

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

भागव आदर्श हिन्दी शब्दकोश

हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, ग्रामीण, व्रजभाषा तथा भिन्न विषयों के नवीन शब्द साहित्य,
अलंकार- आयुर्वेद, इतिहास, भूगोल, पुराण, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष तथा
शास्त्रीय शब्दों और वाग्व्यवहारों आदि का वृहत् संग्रह

(संशोधित तथा संबधित)

41786

अर्थ प्रबन्ध कर विभाग, विनियम, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान. राजनियम, विधान
तथा शासनकार्य के संबंध के विविध शब्दों की सूची-जिनके
यथोचित अंग्रेजी के पर्याय साथ-साथ दिये गये हैं ।

सम्पादक

पण्डित रामचन्द्र पाठक, बी. ए., एल्. टी.

भूतपूर्व प्रोफेसर गवर्नमेन्ट संस्कृत कॉलेज वाराणसी

संकलनकर्ता—भागव सचित्र स्टैण्डर्ड अंग्रेजी हिन्दी डिक्शनरी

कानूसाइस् अंग्रेजी हिन्दी डिक्शनरी, सचित्र हिन्दी अंग्रेजी डिक्शनरी इत्यादि

प्रकाशक

भागव बुकडिपो, चौक, वाराणसी

प्रधान वितरक

श्रीगंगा पुस्तकालय, त्रिलोचन, वाराणसी

मूल्य ६०)

प्रकाशकीय

हिन्दी के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात् से साहित्य, कला, विज्ञान एवं तकनीकी विषयों पर पाठ्य-पुस्तकों और संदर्भ-ग्रंथों की रचना तीव्रगति से हो रही है। इस नये वातावरण के अनुकूल हिन्दी में भी सभी सजीव भाषाओं की तरह हजारों नये शब्दों का निर्माण हुआ है और प्रतिदिन नये शब्द प्रकाश में आते जा रहे हैं।

इस परिस्थिति में कोई भी कोश यदि उसमें इन नये शब्दों का समावेश यथासमय नहीं हो जाता तो, अपना उपयोग खो देगा। अतः प्रत्येक कोशकार और प्रकाशक को इस दिशा में जागरूक रहना अनिवार्य है जिससे पाठकों को एक से अधिक कोश की सहायता लेने पर विवश न होना पड़े। यदि ऐसी असुविधा का अंत किया जा सके तो कोई भी कोश अपना मूल्य बनाये रखेगा।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम अपने कोश का नया संशोधित एवं संवर्धित संस्करण पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। हमने प्रयास किया है कि भाषा की विभिन्न नयी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार तथा अन्य संस्थाओं एवं विशिष्ट विद्वानों द्वारा जो नये शब्द निर्मित तथा संकलित किये गये हैं, वे प्रायः सभी प्रस्तुत संस्करण में ले लिये जायँ। इसके फलस्वरूप लगभग सवा सौ पृष्ठ (१५ फर्मे) पहले की अपेक्षा बढ़ गये हैं। आशा है, प्रस्तुत संस्करण पाठकों की आज की आवश्यकता पूरी कर सकने में समर्थ होगा।

—प्रकाशक

आदर्श हिन्दी शब्दकोश

अ

अ- हिन्दी तथा संस्कृत के स्वर वर्ण का पहिला अक्षर, इसका उच्चारण कंठ से होता है। सभी व्यंजन वर्णों का उच्चारण 'अकार' युक्त होता है; यथा- क्+अ=क; ख्+अ=ख इत्यादि। तन्त्रशास्त्र में अकार से ईश्वरत्व का बोध होता है; (आदि प्रत्य०) निषेध, अभाव तथा विपर्याय के अर्थ में प्रत्यय की तरह प्रयोग होता है, यथा- अकाल, अपापी, अद्राह्मण आदि। स्वर से आरंभ होनेवाले शब्दों के साथ लगने पर इसका रूप 'अन्' हो जाता है; जैसे- अ+अधिकार=अनधिकार; अ+आदर=अनादर आदि; (सं. पुं.) ब्रह्मा, सृष्टि, अमृत, मेघ, ब्राह्मण, कीर्ति, कण्ठ, ललाट।

अंक- (सं. पुं. अङ्क) चिह्न, निशान, छाप, संख्या (१, २, ३ आदि), लिखावट, दाग, कलंक, तप्त मुद्रांकित धार्मिक चिह्न, नाटक का खंड या सर्ग, रूपक अलंकार का भेद विशेष, गोद, क्रोड़, बगल या पार्श्व, करवट। (क्रि. प्र.)-डेना, भरना या लगाना-भेंटना, आलिंगन करना।

अंकक- (सं. पुं., वि.) (स्त्री. अंकिका) हिसाब, चिह्न, छाप आदि लगानेवाला (यंत्र, व्यक्ति आदि)।

अंककरण- (सं. पुं.) चिह्न, छाप या गोद लगाने की क्रिया।

अंककार- (सं. पुं.) हिसाब या छाप लगानेवाला व्यक्ति, वाजी आदि का निर्णायक।

अंकगणित- (सं. पुं.) संख्याओं को जोड़ने, घटाने और गुणा-भाग करने का शास्त्र या विद्या।

अंकगत- (सं. वि.) गोद या पकड़ में आया हुआ।

अंकटा- (हिं. पुं.) (स्त्री. अँकटी) कंकड़ का चिकना छोटा टुकड़ा।

अँकटी- (हिं. स्त्री.) महीन छोटी कंकड़ी।
अँकड़ी- (हिं. स्त्री.) काँटी, तीर का मुड़ा हुआ फल, अनाजों में उगनेवाली लता विशेष, लगी।

अंकतंत्र- (सं. पुं.) अंकगणित।

अंकति- (सं. पुं.) अग्नि, पवन, ब्रह्मा, अग्निहोत्री।

अंकधारण- (सं. पुं.) गोद में धारण करना।

अंकन- (सं. पुं.) (वि. अंकनीय, अंकित) चिह्न या छाप लगाना, चिह्नितकरण, लेखन, शरीर पर शंख, चक्र आदि का धार्मिक चिह्न छापवाना, गिनने की क्रिया।

अँकना- (हिं. क्रि. अ. तथा स.) अंकित या चिह्नित होना, आँका जाना, आँकना, कूतना।

अंकनीय- (सं. वि.) अंकन के योग्य, अंकित किया जाने वाला।

अंकपत्र- (सं. पुं.) (वि. अंकपत्रित) पक्की लिखा-पढ़ी या मुकदमें आदि में प्रयुक्त होनेवाला निर्धारित मूल्य का सरकारी मुद्रांकित कागज, टिकट, स्टाम्प।

अंकपत्रित- (सं. वि.) (लिखा-पढ़ी, दावा आदि) जिसमें अंकपत्र का उपयोग किया गया हो।

अंकपालि, अंकपालिका- (हिं. स्त्री.) क्रोड़, आलिंगन।

अंकपाली- (सं. स्त्री.) आलिंगन, छाती से लगाना, परिचारिका।

अंकमाल- (सं. पुं.) आलिंगन, अँकवार।

अंकमालिका- (सं. स्त्री.) अंकपालिका।

अँकरा- (हिं. पुं.) (स्त्री. अँकरी) एक प्रकार की घास जो गेहूँ या जव के खेत में स्वतः उगती है।

अँकरी- (हिं. स्त्री.) छोटा अँकरा।

अँकरीरी, अँकरीरी- (हिं. स्त्री.) अँकटी, छोटी कंकड़ी।

अँकवाना- (हिं. क्रि. स.) जँचवाना, कूत करवाना, अंकित या चिह्नित कराना।

अँकवार- (हिं. स्त्री.) अंकपाली, गोद, छाती; (क्रि. प्र.)-डेना-छाती से

लगाना, -भरना-गले लगाना या लगाना, नववधू का पुत्रवती होना।

अँकवारना- (हिं. क्रि. स.) आलिंगन करना।

अँकवारी- (हिं. स्त्री.) गोद, अंक।

अंकविद्या- (सं. स्त्री.) गणित जिसमें अंकों द्वारा हिसाब किया जाता है।

अंकशायिनी- (सं. स्त्री.) बगल में सोने वाली (स्त्री)।

अंकशायी- (सं. पुं., वि.) (स्त्री. अंकशायिनी) गोद में सोनेवाला (बच्चा या पुरुष)।

अंकस- (सं. पुं.) दाग, चिह्न, देह, शरीर।

अँकाक- (सं. पुं.) जल।

अँकाई- (हिं. स्त्री.) आँकने की क्रिया, भाव या मजदूरी, कूत, अटकल।

अँकाना- (हिं. क्रि. स.) अँकवाना।

अँकाव- (हिं. पुं.) कूत कराने का कार्य, अँकाई, कुताई, जँचवाई।

अँकावतार- (सं. पुं.) नाटक में एक अंक के अंत में आगामी अंक की घटना सूचित करने का संकेत, अंक-पटाक्षेप।

अंकित- (सं. वि.) अंकन किया हुआ, चिह्नित, लिखित।

अंकितक- (सं. पुं.) किसी वस्तु पर चिपकाया हुआ नाम, मूल्य आदि लिखा हुआ कागज का छोटा टुकड़ा।

अंकित मूल्य- (सं. पुं.) वह मूल्य जो किसी पदार्थ पर अंकित रहता है।

अँकिल- (हिं. वि.) अंकित, चिह्नित, चिह्न किया हुआ; (हिं. पुं.) दागकर छोड़ा हुआ साँड़।

अँकुड़ा- (हिं. पुं.) (स्त्री. अँकुड़ी) लोहे का एक ओर मोड़कर गोल किया हुआ कांटा, कुलावा. वृनकरों का एक उपकरण।

अँकुड़ी- (हिं. स्त्री.) मुड़ी हुई कांटी, हल की लकड़ी का वह भाग जिसमें फार जड़ा होता है; -दार- (हिं. वि.) अँकुड़ी लगा हुआ।

अँकुर- (सं. पुं.) पौधे की बीज से फूटकर उगने की प्रारम्भिक अवस्था, अँदुवा।

डाभ, कली, रोआँ, संतान, रक्त, नोक या सिरा, घाव का भरना; (क्रि. प्र.) -जगना, जमना, निकलना या फूटना-बीज जगना ।

अंकुरण-(सं. पुं.) (वि. अंकुरित) अंकुर निकलने की क्रिया या भाव, नव प्रस्फुटन ।

अंकुरना, अंकुराना-(हि. क्रि. अ.) अंकुवा फूटना, बीज जमना, उत्पन्न होना ।

अंकुरित-(सं. वि.) अंकुर उगा हुआ, अंकुवाया हुआ, नव प्रस्फुटित; -यीवना-

(स्त्री.) वह स्त्री जिसमें युवावस्था के चिह्न प्रकट हो चुके हों ।

अंकुरी-(हि. स्त्री.) भिगाये हुए चने की धुपनी ।

अंकुश-(सं. पुं.) लोहे की छोटी नुकीली छड़ जिसे महावत हाथी को वश में रखने के लिए उपयोग करता है, रोक, नियंत्रण, दवाव; -ग्रह-(पुं.) महावत, पीलवान ।

अंकुशा-(हि. स्त्री.) छोटा अंकुश ।

अंकुसी-(हि. स्त्री.) लोहे की झुकी हुई कील जो किसी पदार्थ के लटकाने या फँसाने के काम में आती है, साँप मारने का माला, किवाड़ बंद करने का पेंच ।

अंकुड़ा-(हि. पुं.) एक प्रकार की मूड़ी हुई कड़ी जिसमें रस्से को फँसाकर पानी में नाव खींची जाती है, एक प्रकार का छोटा लंगर, वड़ी कँटिया ।

अँकौर-(हि. पुं.) गोद, अँकवार, मँट, घूस, मजदूर का कलेवा, दोपहर ।

अँकाल-(सं. पुं.) पहाड़ी वृक्ष विशेष जिसकी छाल दवा के काम आती है ।

अँकय-(सं. वि.) अंकन करने या अँकने योग्य ।

अँखड़ी-(हि. स्त्री.) चक्षु, नेत्र, आँख ।

अँखमिचौनी-(हि. स्त्री.) देखें 'आँख-मिचौनी' ।

अँखाना-(हि. क्रि. अ.) क्रोध दिखलाना ।

अँखिया-(हि. स्त्री.) आँख, नकाशी बनाने का ठप्पा ।

अँखुआ-(हि. पुं.) बीज में से निकला हुआ महीन अंकुर ।

अँखुआना-(हि. क्रि. अ.) अंकुर फूटना, बीज जमना ।

अंग-(सं. पुं.) देह, शरीर, अवयव, भाग, गोन या आश्रित विषय या वस्तु, उपाय या साधन, मन, प्राचीन भारत का एक जनपद; (क्रि. प्र.) -सूटना-अंगड़ाई

आना; -लगाना-आलिंगन करना, आहार का देह को पुष्ट बनाना, (बच्चे का) किसी से परचना; -लगाना-लिपटाना,

परचाना, विवाह द्वारा कन्या को पुरुष के जिम्मे करना ।

अंगचारी-(सं. पुं.) (स्त्री. अंगचारिणी) साथी, सहचर ।

अंगच्छेद-(सं. पुं.) शरीर के किसी अंग को काटकर अलग करना, प्राचीन न्याय-व्यवस्था में ऐसा आपराधिक दंड ।

अंगज, अंगजात-(सं. वि.) अंग या शरीर से उत्पन्न; (पुं.) पुत्र, स्वेद या पसीना, रोम, काम-वासना ।

अंगजा, अंगजाता-(सं. स्त्री.) पुत्री, बेटा ।

अंगड़-खंगड़-(हि. वि., पुं.) टूटा-फूटा, गिरा-पड़ा हुआ (पदार्थ) ।

अँगड़ाई-(हि. स्त्री.) आलस्य में जँभाई लेते हुए देह टूटना ।

अँगड़ाना-(हि. क्रि. अ.) अँगड़ाई लेना ।

अंगत्राण-(सं. पुं.) शस्त्र-प्रहार से रक्षा के लिए पहना जानेवाला कवच, वस्त्र, वर्म ।

अंगद-(सं. पुं.) बाजबंद, बालि का बेटा, लक्ष्मण का पुत्र, दुर्गोधन का एक योद्धा ।

अंगदान-(सं. पुं.) युद्ध में आत्म-समर्पण, (स्त्री का भोग के लिए) देह-समर्पण ।

अंगद्वार-(सं. पुं.) मुख आदि शरीरके छिद्र ।

अंग-वारी-(सं. पुं.) शरीर से युक्त प्राणी ।

अँगना-(हि. पुं.) आँगन, घर के मध्य का खुला भाग ।

अँगना-(सं. स्त्री.) सुन्दर अँगोवालीयुवती ।

अँगनाई-(हि. स्त्री.) छोटा अँगना ।

अँगनाया-(हि. स्त्री.) अँगना ।

अँगन्यास-(सं. पुं.) पूजा करते समय मंत्रोच्चार करते हुए अँगों का किया जानेवाला स्पर्श ।

अँगपालि, अँगपाली-(सं. स्त्री.) आलिंगन ।

अँगपालिका-(सं. स्त्री.) अंकपालिका ।

अँग-प्रत्यंग-(सं. पुं.) शरीर के अवयव ।

अँगभंग-(सं. पुं.) किसी अँग की हड्डी का टूटना, ऐसा आघात जिसमें हड्डी टूट जाय ।

अँग-भंगिमा-(सं. स्त्री.) भावव्यंजक शारीरिक मुद्राएँ ।

अँग-भंगी-(हि. स्त्री.) अँग-भंगिमा ।

अँग-भाव-(सं. पुं.) नृत्य, संगीत आदि में की जानेवाली अँग-भंगी ।

अँग-भू-(सं. वि.) शरीर से उत्पन्न; (पुं.) पुत्र, बेटा, काम का भाव ।

अँग-भूत-(सं. वि.) अँग के रूप में शामिल, अंतर्गत ।

अँगमर्दक-(सं. पुं.) अँग-मर्दन करनेवाला ।

अँग-मर्दन-(सं. पुं.) तेल आदि द्वारा शरीर की मालिश ।

अँगमर्ष-(सं. पुं.) गठिया वात (रोग) ।

अँग-रक्षक-(सं. पुं.) राजा-महाराजा आदि की शारीरिक रक्षा में नियुक्त सशस्त्र प्रहरी, बाँडी-गाई ।

अँग-रक्षा-(सं. स्त्री.) शरीर की रक्षा ।

अँगरेखा-(हि. पुं.) घुटने तक का लंबा अंगा या चपकन जिसमें बटन के स्थान पर बंद लगे होते हैं ।

अँगरा-(हि. पुं.) अंगार, अंगारा ।

अँगराई-(हि. स्त्री.) अँगड़ाई ।

अँगराग-(सं. पुं.) शारीरिक सौंदर्य-वर्धन के लिए लगाया जानेवाला लेप आदि; सौन्दर्य-प्रसाधन ।

अँग-राज-(सं. पुं.) अँग देश का राजा, कर्ण ।

अँगराना-(हि. क्रि. अ.) अँगड़ाई लेना ।

अँगरी-(हि. स्त्री.) कवच, वस्त्र ।

अँग-रूह-(सं. पुं.) रोआँ, ऊन ।

अँगरेज-(हि. पुं.) इंग्लैण्ड देश का निवासी ।

अँगरेजियल-(हि. स्त्री.) अँगरेजी चाल-ढाल, इसका अंधानुकरण, अँगरेजपन ।

अँगरेजी-(हि. स्त्री.) अँगरेजों की भाषा, (वि.) विलायती ।

अँगलेट-(हि. पुं.) शरीर का गठन, काठी ।

अँगलेप-(सं. पुं.) अँग-राग ।

अँगवना-(हि. क्रि. स.) स्वीकार करना, जिम्मेदारी लेना (कोई काम करने की) ।

अँगवारा-(हि. पुं.) खेत की जोताई में अन्य पुरुष की सहायता, गाँव के किसी अंश का मालिक ।

अँग-विकृति-(सं. स्त्री.) किसी अँग के गठन में होनेवाला विकार या भद्दापन, सुडौलपन का विपर्यय ।

अँग-विक्षेप-(सं. पुं.) भाव-भंगिमा में किया जानेवाला अँगों का संचालन ।

अँग-विद्या-(सं. स्त्री.) व्याकरण आदि शास्त्र ।

अँग-विभ्रम-(सं. पुं.) एक रोग ।

अँग-शैथिल्य-(सं. पुं.) थकावट, शारीरिक उदासी ।

अँग-शोष-(सं. पुं.) शिशुओं का सुखंडी नामक रोग ।

अँग-संग-(सं. पुं.) संभोग ।

अँग-संगी-(सं. पुं.) अँग-संग या संभोग करनेवाला ।

अँग-संचालन-(सं. पुं.) भाव-भंगिमा में हाथ, सिर आदि की मुद्राएँ ।

अँग-संधि-(सं. स्त्री.) शरीर-रचना में हड्डियों के जोड़ के भाग या स्थल ।

अँग-संस्कार-(सं. पुं.) वनाव-सिगार ।

अँग-संहति-(सं. स्त्री.) किसी चीज की

रचना में उसके अंगों में होने वाला सामंजस्य या तातम्य ।
 अंग-सख्य—(सं. पुं.) घनिष्ट मैत्री ।
 अंग-सिहरी—(हि.स्त्री.) कैंपकंपी, जूड़ी ।
 अंग-सेवक—(सं. पुं.) शारीरिक सेवा-
 टहल करनेवाला ।
 अंग-सौष्ठव—(सं. पुं.) शारीरिक गठन
 की सुन्दरता या आकर्षकता ।
 अंग-हानि—(सं.स्त्री.) किसी अंग या अवयव
 की हानि ।
 अंग-हार, अंग-हारि—(सं.पुं.) अंग-विक्षेप ।
 अंग-हीन—(सं. वि.) किसी अंग या
 अवयव से रहित, बिना शरीर का;
 (पुं.) कामदेव, अन्ग ।
 अंगांगीभाव—(सं. पुं.) शरीर में अंगों का
 होनेवाला गौण और मुख्य का पार-
 स्परिक समन्वय; अन्योन्याश्रय ।
 अंगा—(हि. पुं.) अंगरखा, चपकन ।
 अंगाकड़ी—(हि. स्त्री.) अंगार पर सेकी
 अंहुई मोटी रोटी, लिट्टी, वाटी ।
 अंगार—(हि. पुं.) अंगारा, जलता हुआ
 कोयला ।
 अंगारक—(सं. पुं.) अंगार, मंगल ग्रह,
 (रसायन शास्त्र में) कार्बन; -मणि—
 (पुं.) मूंगा ।
 अंगारकाम्ल—(सं. पुं.) कार्बन और
 आक्सीजन के मेल से बननेवाला एक
 अम्ल या एसिड ।
 गार-कुष्ठक (सं. पुं.) हितावली नाम
 का पौधा ।
 अंगार-धानिका—(सं. स्त्री.) अंगीठी ।
 अंगार-पर्ण—(सं. पुं.) गंधर्वों का नायक
 चित्ररथ ।
 अंगार-पुष्प—(सं. पुं.) इंगुदी या हिगोट
 का पेड़ ।
 अंगार-मंजरी, अंगार-मंजी—(सं. स्त्री.)
 रक्त-करंज वृक्ष ।
 अंगार-मणि—(सं. पुं.) मूंगा ।
 अंगार-वल्लरी, अंगार-वल्ली—(सं. स्त्री.)
 घुंघची, करंज ।
 अं(अं)गारा—(हि.पुं.)दहकता हुआ कोयला,
 लकड़ी आदि, अंगार; (वि.) अंगार
 जैसा लाल; (मुहा०) -बनना या होना—
 गुस्सा या क्रोध में लाल हो जाना; -(रे)
 उगलना—मर्म पर आघात करनेवाली बातें
 कहना; -फांकना—ऐसा काम करना
 जिसका परिणाम बहुत कष्टदायक हो;
 -बरसना—वृष का ताप असह्य होना;
 बहुत ही तप्त लू का बहना; -(रों) पर
 पैर रखना—जान-जीविम काम करना;

-परलोटना—क्रोध-ईर्ष्या से जलना ।
 अंगारि, अंगारिका—(सं. स्त्री.) अंगीठी,
 किशुक की कली ।
 अंगारिणी—(सं. स्त्री.) छोटी अंगीठी,
 अस्ताचल सूर्य की लालिमा, एक लता ।
 अंगारी—(सं. वि.) सूर्य द्वारा तप्त ।
 अंगारी—(हि. स्त्री.) ईख के कटे हुए छोटे-
 छोटे टुकड़े, ईख के सिरे पर की पत्ती ।
 अंगिका—(सं. स्त्री.) अँगिया, चोली ।
 अँगिया—(हि. स्त्री.) स्त्रियों की केवल
 स्तनों को ढाँपने की कुरती जो बंदों से
 पीठ की ओर बाँधी जाती है ।
 अंगिर—(सं. पुं.) अंगिरस् ।
 अंगिरस्—(सं. पुं.) ब्रह्मा के मानसपुत्रों
 में से एक, सप्ताषियों में से एक जो स्मृति-
 कार माने जाते थे ।
 अंगिरा—(सं. पुं.) अंगिरस् ।
 अंगिराना—(हि. क्रि. अ.) अंगड़ाई लेना ।
 अंगिर—(सं. पुं.) एक वैदिक ऋषि ।
 अंगी—(सं. वि.) अंग या शरीर से युक्त,
 अवयव-युक्त ।
 अंगीकरण—(सं. पुं.) (वि. अंगीकृत)
 स्वीकार करने की क्रिया या भाव,
 अंग के रूप में समन्वित करने की क्रिया
 या भाव ।
 अंगीकार—(सं. पुं.) स्वीकार करने की
 क्रिया या भाव, अंगीकरण ।
 अंगीकृत—(सं. वि.) (भाव. अंगीकृति)
 अंगीकार या स्वीकार किया हुआ ।
 अंगीकृति—(सं. स्त्री.) स्वीकृति, मंजूरी ।
 अंगीठा—(हि. पुं.) (स्त्री. अंगीठी)
 चूल्हा, बोरसी ।
 अंगीठी—(हि. स्त्री.) छोटा चूल्हा, छोटी
 बोरसी ।
 अंगीथ—(सं. वि.) अंग का, अंग संबंधी ।
 अंगूठा—(हि. पुं.) अंगूठा ।
 अंगूठी—(हि. स्त्री.) मुंदरी, अंगूठी ।
 अंगुर—(हि. पुं.) अंगुल ।
 अंगुरि, अंगुरी—(सं. स्त्री.) हाथ या पैर
 की उँगली ।
 अंगुरी—(हि. स्त्री.) उँगली ।
 अंगुरीय, अंगुरीयक—(सं. पुं.) उँगली में
 पहनने का गहना, अंगूठी, विछिया ।
 अंगुल—(सं. पुं.) उँगली, उँगली की
 चौड़ाई के बराबर माप, वित्ते का माप ।
 अंगुलि, अंगुली—(सं. स्त्री.) उँगली,
 हाथी की सूँड़ का अंग भाग ।
 अंगुलि-त्तरण—(सं. पुं.) ललाट पर बना
 हुआ अर्ध चन्द्राकार टीका ।
 अंगुलि-त्राण—(सं. पुं.) सिलाई के समय

उँगली में पहना जानेवाला लोहे का टोप ।
 अंगुलि-निर्देश—(सं. पुं.) उँगली द्वारा
 इशारा या संकेत करना ।
 अंगुलि-पर्व—(सं. पुं.) उँगली का पोर या
 संघि ।
 अंगुलि-प्रतिमुद्रा—(सं. स्त्री.) उँगली या
 अंगूठे की छाप या निशान ।
 अंगुस्त—(फा. पुं.) उँगली; -री—(स्त्री.)
 अंगूठी ।
 अंगुस्ताना—(फा. पुं.) अंगुलित्राण ।
 अंगुष्ठ—(सं. पुं.) अंगूठा ।
 अंगुसा—(हि. पुं.) अँगुआ ।
 अंगुसाना—(हि. क्रि. अ.) अँगुआ निकलना ।
 अंगुसी—(हि. स्त्री.) सोनार की बंक-
 नाल या फुंकनी जिससे दीये को फुंककर
 टाँका लगाया जाता है ।
 अंगूठा—(हि. पुं.) हाथ या पैर की सबसे
 मोटी अंगुली; (मुहा०) -(अंगुली)
 चूमना—खुशामद करना; -दिखाना—
 तिरस्कार या अवज्ञा या विफलता के
 उपहास में अंगूठा दिखाना, नाहीं या
 इनकार करना ।
 अंगूठी—(हि. स्त्री.) उँगली में पहनने का
 गहना, मुद्रिका, मुंदरी ।
 अंगूर—(फा. पुं.) ब्राक्षा, दाख ।
 अंगुरी—(फा. वि.) अंगूर के रंग का,
 अंगूर से बना हुआ; -शराब—(स्त्री.)
 अंगूर की बनी शराब; (पुं.) अंगूर
 सा हलका हरा रंग ।
 अंगोजना—(हि. क्रि. स.) अपने ऊपर ले
 लेना, अंगीकार करना, सहना ।
 अंगेठा—(हि. पुं.) बड़ी अंगीठी ।
 अंगेठी—(हि. स्त्री.) देखें 'अंगीठी' ।
 अंगेरना—(हि. क्रि. स.) देखें 'अंगोजना' ।
 अंगेछना—(हि. क्रि. स.) गीले शरीर को
 वस्त्र से पोंछना ।
 अंगेछा—(हि. पुं.) अंग पोंछने का वस्त्र,
 गमछा ।
 अंगेछी—(हि. स्त्री.) छोटा अंगेछा,
 छोटी मर्दानी धोती ।
 अंगोजना—(हि. क्रि. स.) देखें 'अंगोजना' ।
 अंगोरा—(हि. पुं.) मच्छड़, मुनगा ।
 अंगोरी—(हि. स्त्री.) देखें 'अंगारी' ।
 अंगोंगा—(हि. पुं.) देवता, पुरोहित आदि
 को अर्पण करने के लिये निकाला हुआ
 पदार्थ, अंगुँ ।
 अंगोरिया—(हि. पुं.) मजदूरी के बदले
 हरबाहे को हल-बल मँगनी देना ।
 अंग्य—(सं.वि.) अंगों से संबंध रखनेवाला ।
 अंग्रेज—(अं. पुं.) अंगरेज ।

अंधड़ा-(हि. पुं.) पैर में पहिने का काँसे का छल्ला जिसको नीच जाति की स्त्रियाँ पहिनती हैं।
 अंधराई-(हि. स्त्री.) पशुओं पर लगने का कर।
 अंधस-(सं. पुं.) पाप, पातक।
 अंधिया-(हि. स्त्री.) महीन आटा चलाने की चलनी, अँगिया।
 अंधेरा-(हि. पुं.) दे० 'आँचल'।
 अंधवन-(हि. पुं.) आचमन।
 अंधवना-(हि. क्रि. अ.) आचमन करना, भोजन के बाद कुल्ला करना।
 अंधवाना-(हि. क्रि. स.) आचमन कराना, मुँह धुलाना, कुल्ला कराना।
 अंधर-(हि. पुं.) अक्षर, मंत्र, मुख का एक प्रकार का रोग; (मुहा०) -मारना-जादू-टीना करना।
 अंज-(सं. पुं.) पत्र, कमल।
 अंजन-(सं. पुं.) काजल, सुरमा, स्याही, रात्रि, पश्चिम, नीलगिरि, एक वृक्ष।
 अंजनसार-(हि. वि.) आँखों में अंजन लगाया हुआ।
 अंजनहारी-(हि. स्त्री.) आँख पर होनेवाली फुंसी, विलनी, एक प्रकार का कीड़ा।
 अंजना, अंजनी-(सं. स्त्री.) हनुमान् की माता, विलनी।
 अंजर-अंजर-(हि. पुं.) शरीर की ठठरी।
 अंजवार-(फा. पं.) औषधि के प्रयोग में आनेवाला एक पौधा।
 अंजल, अंजला-(हि. पुं.) अंजलि।
 अंजलि-(सं. स्त्री.) कर-संपुट, अंजली भंग वस्तु; -गत-(वि.) अंजल में रखा हुआ; -वद्ध-(वि.) करवद्ध।
 अंजवाना-(हि. क्रि. स.) अंजन लगवाना।
 अंजहा-(हि. वि.) अन्न से बना हुआ।
 अंजही-(हि. स्त्री., वि.) अन्न विकने का वाजार, अन्न से बना हुआ, अनाजी।
 अंजाना-(हि. क्रि. स.) आँख में काजल लगवाना।
 अंजित-(सं. वि.) अंजन लगा हुआ।
 अंजोर-(हि. पुं.) गूलर के फल के समान एक फल और उसका वृक्ष।
 अंजुरी-(हि. स्त्री.) हथेलियों को सटाकर बना संपुट, अंजलि।
 अंजोर-(हि. पुं.) प्रकाश, उजाला, रोशनी।
 अंजोरना-(हि. क्रि. अ.) प्रकाश करना।
 अंजोरा-(हि. पुं.) उजाला, प्रकाश।
 अंजोरी-(हि. स्त्री.) प्रकाश, चाँदनी;

(वि.) प्रकाशमय।
 अंजा-(हि. पुं.) अनध्याय, नागा, छुट्टी।
 अंतकना-(हि. क्रि. स.) अटकना, रुकना।
 अंतना-(हि. क्रि. स.) पूरा होना, भर जाना, समा जाना, ठीक नाप का होना।
 अंटा-(हि. पुं.) बड़ी गोली, सूत लपेटने की गड़ारी, सूत का लच्छा, ऊँची अटारी।
 अंटागुड़गुड़-(हि. वि.) नशे में अचेत, बेसुध।
 अंटाघर-(हि. पुं.) विलियर्ड खेलने का कमरा।
 अंटाचित-(हि. वि.) पीठ के बल या चित पड़ा हुआ, नशे में चूर, बेसुध।
 अंटाबंधू-(हि. पुं.) कौड़ी जो जुए में फेंकी जाती है।
 अंटिया-(हि. स्त्री.) छोटा पुलिन्दा, गँठिया।
 अंटियाना-(हि. क्रि. स.) लुप्त करना, छिपा लेना, गँठिया बनाना, घागे की लच्छी गड़ारी पर लपेटना।
 अंटी-(हि. स्त्री.) लच्छी, गाँठ, उँगलियों के बीच का स्थान, टेंट, पहलवानी का एक दाँव, कान में पहिने की छोटी घाली।
 अंटीतल-(हि. पुं.) कोल्हू के बेल की आँख पर बाँधा हुआ ढपना या पट्टी।
 अंटीबाज-(हि. पुं.) दगावाज, घोखेवाज।
 अंटीई-(हि. स्त्री.) छोटा कीड़ा, किलनी।
 अंठली-(हि. स्त्री.) नवयौवना का उमड़ा हुआ स्तन।
 अंठी-(हि. स्त्री.) गाँठ, गिलटी, गुठली, चियाँ।
 अंड-(सं. पुं.) अंडा, फोला, अंडकोश, ब्रह्मांड, वीर्य।
 अंडकोश-(सं. पुं.) लिंग के नीचे संलग्न दो गुठलियों की थैली।
 अंडज-(सं. वि., पुं.) अंडे से उत्पन्न होने वाला (प्राणी); जैसे-साँप, मुर्गा आदि।
 अंडबंड-(हि. पुं.) व्यर्थ की वार्ता, बक-झक, गाली-गलौज।
 अंडरना-(हि. क्रि.) अन्न की बाल फूटना।
 अंड-वृद्धि-(सं. स्त्री.) फोता बढ़ने का रोग।
 अंडस-(हि. स्त्री.) असुविधा, अड़चन, कठिनाई।
 अंडा-(हि. पुं.) वह कड़ा आवरणवाला सफेद पिंड जिसमें से साँप, चिड़ियों आदि के बच्चे निकलते हैं, अंड; (मुहा०) अंडे सेना-पक्षियों का अपने अंडे पर बैठना, अकर्मण्य रूप से घर में बैठे रहना।
 अंडाकार, अंडाकृति-(सं. वि.) अंडे की आकृतिवाला।

अंडिया-(हि. स्त्री.) वाजरे की पकी बाल, सूत की लच्छी।
 अंडी-(हि. स्त्री.) रेंड़ी, एक प्रकार का रेशमी बस्त्र।
 अंडुआ-(हि. पुं.) बिना बधिया किया हुआ पशु।
 अंडुआना-(हि. क्रि. स.) पशु को बधिया करना।
 अंडुआ बेल-(हि. पुं.) बिना बधिया किया हुआ बेल, साँड़।
 अंडुवारी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी मछली।
 अंडे-बच्चे-(हि. पुं.) बाल-बच्चे, संतान।
 अंडैल-(हि. वि.) जिसके पेट में अंडा हो।
 अंतःकरण-(सं. पुं.) हृदय, विवेक, ज्ञानेन्द्रिय।
 अंतःकलह-(सं. पुं.) भीतरी झगड़ा।
 अंतःपाल-(सं. पुं.) अंतःपुर का रक्षक या प्रहरी।
 अंतःपुर-(सं. पुं.) राजमहल में रानियों का निवास, जनानखाना।
 अंतःप्रकृति-(सं. स्त्री.) भीतरी या मूल स्वभाव।
 अंतःप्रज्ञ-(सं. वि.) आत्मज्ञानी।
 अंतःस्थ-(सं. वि.) भीतर स्थित।
 अंत-(सं. पुं.) आखिर, समाप्ति, निकट, आखिरी छोर, नाश, मृत्यु, अंतकाल, सामीप्य, पड़ोस, परिणाम, निबटारा, निश्चय, प्रकृति, स्वभाव, भेद, अंतःकरण; (वि.) निकट, समीप; (मुहा०) -पाना-भेद पाना; -वनना-जीवन के आखिरी दिनों का सुखमय होना; -बिगड़ना-जीवन के आखिरी दिनों का बुरा होना; -लेना-भेद लेना, गुप्त बातों की जानकारी प्राप्त करना।
 अंतक-(सं. वि.) नाश करने वाला; (पुं.) मृत्यु, यमराज, सन्निपात ज्वर का एक भेद।
 अंतकर, अंतकरण, अंतकारी-(सं. वि.) नाश करनेवाला।
 अंतकर्म-(सं. पुं.), अंतक्रिया-(सं. स्त्री.) अन्त्येष्टि क्रिया, मृतक क्रिया।
 अंतगति-(सं. स्त्री.) मृत्यु, मौत।
 अंतघाई-(हि. वि.) विश्वासघाती।
 अंतघाती-(सं. वि.) विश्वासघाती।
 अंतड़ी-(हि. स्त्री.) आंत।
 अंततः-(सं. अव्य.) अन्त में, कम से कम।
 अंतरंग-(सं. वि.) भीतरी, घनिष्ठ या दिली; (पुं.) भीतरी अंग (हृदय, मस्तिष्क आदि)।
 अंतर-(सं. वि.) भीतरी, निकट, आसन्न,

आत्मीय; (पुं.) भीतर का भाग, आशय, मन, हृदय, बीच, अवकाश, काल, अवधि, फर्क, शेष, दूरी, फासला।
 अंतरग्नि—(सं. स्त्री.) जठराग्नि, पाचन-क्रिया की अग्नि।
 अंतरछाल—(हिं. पुं.) छाल के भीतर का नरम भाग।
 अंतरजाल—(हिं. पुं.) कसरत करने की एक लकड़ी।
 अंतरण—(सं. पुं.) एक स्थान से दूसरे स्थान को हटना, स्थान-परिवर्तन।
 अंतरा—(सं. अव्य.) भीतर, बीच में, पास, कभी-कभी, यदा-कदा, प्रसंगतः; (पुं.) स्थायी या टेक को छोड़कर गीत के अन्य पद।
 अंतरा—(हिं. पुं.) कोना, नागा, एकावट, एक दिन का अंतर देकर आने वाला ज्वर, अंतरिया बुखार; (वि.) जो एक दिन का अंतर देकर हो।
 अंतराकाश—(सं. पुं.) आकाश का मध्य-भाग।
 अंतरागार—(सं. पुं.) घर का भीतरी भाग, जनानखाना।
 अंतरात्मा—(सं. स्त्री.) आत्मा, अंतःकरण।
 अंतराना—(हिं. क्रि. स.) भीतर करना, छिपाना।
 अंतराल—(सं. पुं.) मध्यवर्ती काल या स्थान, ओट।
 अंतरिन्द्रिय—(सं. पुं.) भीतरी इंद्रिय (मन, बुद्धि आदि)।
 अंतरिक्ष—(सं. पुं.) आकाश का सुदूरतम भाग।
 अंतरित—(सं. वि.) जिसका अंतरण किया गया हो, अपने स्थान या स्थिति से हटाया हुआ।
 अंतरीय—(सं. पुं.) भू-भाग का वह पतला भाग जो समुद्र के भीतर दूर तक चला गया हो।
 अंतरीय—(सं. पुं.) नीचे पहनने का कपड़ा, अंतरीटा।
 अंतरीटा—(हिं. पुं.) अंतरीय।
 अंतरू—(सं. अव्य.) भीतर, बीच में।
 अंतर्गत—(सं. वि.) भीतर समाया हुआ।
 अंतर्गृह—(सं. पुं.) मकान का भीतरी भाग या खंड।
 अंतर्घट—(सं. पुं.) अंतःकरण, अंतर्गत्मा।
 अंतर्जातीय—(सं. वि.) दो या कई जातियों से संबंधित; -विवाह—(पुं.) दो विभिन्न जातियों के पात्रों का होनेवाला विवाह।
 अंतर्ज्ञान—(सं. पुं.) अंतःकरण, अंतर्बोध,

भीतरी ज्ञान।
 अंतर्ज्वाला—(सं. स्त्री.) पृथ्वी की भीतरी आग, चिता, संताप।
 अंतर्वशी—(सं. वि.) मन की भीतरी वृत्तियों को समझनेवाला, आत्म-निरीक्षक।
 अंतर्दशाह—(सं. पुं.) मृत्यु के बाद दस दिनों की अवधि में होनेवाला अन्त्येष्टि कृत्य।
 अंतर्दृष्टि—(सं. स्त्री.) आत्म-ज्ञान का बोध, ज्ञान-चक्षु।
 अंतर्वेशीय—(सं. वि.) दो या कई देशों के बीच होनेवाला या उनसे संबंधित।
 अंतर्दान, अंतर्धान—(सं. पुं.) अदृश्य या गायब हो जाना।
 अंतर्निहित—(सं. वि.) भीतर स्थित, मन के भीतर स्थित।
 अंतर्बोध—(सं. पुं.) मन की स्वाभाविक सहज बुद्धि, अंतर्ज्ञान।
 अंतर्भाव—(सं. पुं.) अंतर्गत होना।
 अंतर्भावना—(सं. स्त्री.) मन ही मन किया जानेवाला चिंतन।
 अंतर्भूत—(सं. वि.) मन में समाया हुआ।
 अंतर्मुख—(सं. वि.) भीतर की ओर मुख वाला।
 अंतर्गामी—(सं. वि., पुं.) मन में निवास करनेवाला या उसके भाव समझने वाला (ब्रह्म या आत्मा)।
 अंतर्राष्ट्रीय—(सं. वि.) दो या अधिक राष्ट्रों से संबंधित।
 अंतर्लौकिक—(सं. वि.) अपने मानसिक विचारों में ही लौकिक।
 अंतर्वर्ती—(सं. वि.) भीतर या बीच में स्थित।
 अंतर्वदना—(सं. स्त्री.) भीतरी पीड़ा या कष्ट; संताप।
 अंतर्हित—(सं. वि.) अदृश्य, लुप्त, दृष्टि से ओझल।
 अंतर्स्तल—(सं. पुं.) हृदय, अंतःकरण।
 अंतर्स्ताप—(सं. पुं.) भीतरी या मानसिक वेदना, मनस्ताप।
 अंताक्षरी—(सं. स्त्री.) पद्य-पाठ की वह प्रतियोगिता जिसमें एक प्रतियोगी द्वारा पद्य के अंतिम अक्षर से आरंभ होनेवाला पद्य दूसरा प्रतियोगी प्रत्युत्तर में पढ़ता है।
 अंतावरी—(हिं. स्त्री.) अंतड़ी, आंत।
 अंतिम—(सं. वि.) आखिरी, चरम।
 अंत्य—(सं. वि.) अंत का, अंतिम।
 जल्पकर्म—(सं. पुं.) मृतक का दाहकर्म आदि।
 अंत्यज—(सं. पुं.) शूद्र, अछूत।
 अंत्यवर्ण—(सं. पुं.) अंत्यज।

अंत्याक्षरी—(सं. स्त्री.) अंताक्षरी।
 अंत्येष्टि—(सं. स्त्री.) मृतक कर्म।
 अंत्र—(सं. पुं.) आंत, अंतड़ी।
 अंत्रबुद्धि—(सं. स्त्री.) आंत फूलने की बीमारी।
 अंदरसा—(हिं. पुं.) पीसे हुए चावल की मिठाई।
 अंदरी—(फा. वि.) भीतरी।
 अंदरूनी—(फा. वि.) भीतर का, भीतरी।
 अंदाज—(फा. पुं.) अदा, मोहक रग, अटकल।
 अंदाजन—(फा. अव्य.) अटकल से, लगभग।
 अंदाजपट्टी—(हिं. स्त्री.) खेत की फसल के दाम की कूत।
 अंदाजपीटी—(हिं. स्त्री.) दिनरात श्रृंगार करनेवाली स्त्री।
 अंदाजा—(फा. पुं.) अंदाज।
 अंदाना—(हिं. क्रि. स.) बचाना।
 अंठुआ—(हिं. पुं.) हाथी के पिछले पैर में फंसाने की एक काँटेदार बेड़ी।
 अंदेशा—(फा. पुं.) शक, आशंका, खतरा, दुविधा।
 अंदोर—(हिं. पुं.) कोलाहल।
 अंधोह—(फा. पुं.) सन्देह, आशंका, शोक।
 अंध—(सं. वि.) जो दृष्टिशक्ति से रहित हो, अंधा, निर्बुद्धि; (पुं.) अंध या अंधा व्यक्ति।
 अंधकार—(सं. पुं.) प्रकाश का अभाव, अंधियारा।
 अंधखोपड़ा—(इं)- (हिं. पुं.) अज्ञानी, मूर्ख, लठ।
 अंधड़—(हिं. पुं.) धूलपूर्ण तीव्र वायु, आंधी।
 अंधधुंध—(हिं. पुं.) अन्वकार, अत्याचार।
 अंध-परंपरा—(सं. स्त्री.) बिना सोचे-समझे पुरानी रीति-रिवाज या विचारों का अंधानुकरण।
 अंध-विश्वास—(सं. पुं.) पुरानी रीतियों या विचारों में अताकिक विश्वास तकहीन विश्वास।
 अंधा—(हिं. वि.) देखने की शक्ति से रहित, अंध, विचारहीन, मूर्ख; (पुं.) अंधा व्यक्ति; (मुहा०) अंधे की लकड़ी या लाठी—एकमात्र सहारा; -बनना—बेवकूफ बनना; -बनाना—बेवकूफ बनाना, ठगना।
 अंधाधुंध—(हिं. वि.) बड़ा अंधेरा, विचारहीनता, (अव्य.) अतिगम्य, बहुत।
 अंधानुकरण—(सं. पुं.) बिना सोचे-समझे किसी रीति-रिवाज, विश्वास या विचारों की नकल।

अंधारी—(हि. स्त्री.) अंधड़।
 अंधिघार—(हि. पुं.) अन्धकार, प्रकाश का अभाव।
 अंधिघारा—(हि. पुं.) अंधेरा, अन्धकार।
 अंधिघारी—(सं. स्त्री.) अन्धकारमय वातावरण, अंधेरा।
 अंधेर—(हि. पुं.) अत्याचार, अन्याय, बुरा प्रबंध।
 अंधरगाता—(हि. पुं.) गड़बड़ी, कुप्रबंध।
 अंधेरना—(हि. क्रि. म.) गड़बड़ी करना, अंधेरा करना।
 अंधेरा—(हि. पुं.) अन्धकार; -पाख—(पुं.) कृष्ण पक्ष; (वि.) अन्धकारमय; (मुहा०) अंधेरे घर का उजाला—अति गुन्दर व्यक्ति, एकलौता पुत्र; -छा जाना—गुच्छ दिग्दर्श न देना; अंधेरे मूँह—गो फटने से पूर्व, सूर्योदय से पहले।
 अंधेरिया—(हि. स्त्री.) अन्धकार, अंधेरी रात, घोड़े या बैल की आँसु ढाँपने का पट्टा।
 अंधेरी—(हि. स्त्री.) अंधेरिया, अन्धकार, घोड़े की आँसु पर बाँधने की पट्टी या जाली।
 अंधोटी—(हि. स्त्री.) घोड़े या बैल की आँसुओं को ढाँपने का पट्टा, अंधवट।
 अंधर—(सं. पुं.) आकाश, आसमान, यज्ञ, केदार, एक सुगंधित द्रव्य।
 अंधरवारी—(हि. स्त्री.) एक वृक्षविशेष। इसकी लकड़ी को दाग्हली और इसकी जड़ में निकाले हुए रस को 'रसवत' कहते हैं।
 अंधरवेल—(हि. स्त्री.) आकाश वेल, अमरवेल, यह घागे के ममान पतली होती है और वृक्षो पर एक टुकड़ा फँक देने में बहती है।
 अंधरवारी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कर।
 अंधरुट—(सं. पुं.) मध्य पंजाब का प्राचीन नाम, मरावत।
 अंधा—(सं. स्त्री.) माता, दुर्गा।
 अंधारा—(हि. पुं.) आमड़ा (फल)।
 अंधारानी—(हि. स्त्री.) आम का गुनाया और पत्तों में जमाया हुआ रस, अन्धारट।
 अंधारी—(सं. पुं.) शायी की पीठ पर रखने का गड़गदार होना, छज्जा।
 अंधिया—(सं. स्त्री.) अंधा।
 अंधिया—(हि. स्त्री.) बिना जानी पड़ा हुआ आम का कच्चा फल, टिकोरा।
 अंधु—(सं. पुं.) जल, पानी, रस का समान अर्थ।
 अंधुज—(सं. पुं, वि.) जल में उत्पन्न

होनेवाला, कमल।
 अंधुद—(सं. वि., पुं.) जल देनेवाला, बादल।
 अंधुधि—(सं. पुं.) सागर, समुद्र।
 अंधुनिधि—(सं. पुं.) सागर।
 अंधुपति—(सं. पुं.) समुद्र, वरुण।
 अंधोज—(सं. वि., पुं.) जल में उत्पन्न होनेवाला, कमल, चंद्रमा।
 अंश—(सं. पुं.) भाग, खण्ड, अवयव, कच्चा, किसी राशि का तीस भाग, अक्षांश, भाज्य अङ्क (यथा ३ अपूर्णाङ्क में १ अंश और ४ हर कहलाता है), कला, राजा, पुरुहोत्र के पुत्र का नाम।
 अंशक—(सं. पुं.) हिस्सेदार, सजिया, पट्टीदार, ज्ञाति, पुत्र, बाँटनेवाला, किसी राशि का तीसवाँ भाग।
 अंशपत्र—(सं. पुं.) जिस प्रतिज्ञापत्र में पट्टेदार का अंश निर्धारित किया गया हो।
 अंशभाज—(सं. पुं.) (स्त्री. अंशभाजा) अंश या हिस्से को ग्रहण करनेवाला।
 अंशमापन—(सं. पुं.) किसी वस्तु के अंश की नाप।
 अंशल—(सं. पुं.) अंश ग्रहण करनेवाला।
 अंशहर—(सं. पुं.) अंश या भाग को ग्रहण करनेवाला।
 अंशावतार—(सं. पुं.) ईश्वर का वह अवतार जिसमें उनकी थोड़ी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।
 अंशी—(सं. पुं.) (स्त्री. अंशिनी) हिस्सेदार, अंश धारण करनेवाला, अवतारी।
 अंशु—(सं. पुं.) सूर्य-किरण, ज्योति, वेग, धागा, अल्प मात्रा, थोड़ा अंश, एक ऋषि का नाम।
 अंशुक—(सं. पुं.) रेशमी वस्त्र, ओढ़ने का वस्त्र, ओढ़नी, दुपट्टा, तेजपात नाम का सुगंधित द्रव्य।
 अंशुपति—(सं. पुं.) सूर्य, आदित्य, मानु।
 अंशुपर्णी—(सं. स्त्री.) शालपर्णी नाम की औषधि विशेष, सरिवन।
 अंशुमंत—(हि. पुं.) सूर्य, राजा अंशुमान्।
 अंशुमता—(सं. स्त्री.) शालपर्णी का वृक्ष।
 अंशुमत्—(सं. वि.) किरणयुक्त; (पुं.) सूर्य।
 अंशुमत्कला—(सं. स्त्री.) केले का वृक्ष।
 अंशुमान्—(सं. पुं.) सूर्य, एक सूर्यवंशी राजा जो असमंजस के पुत्र थे।
 अंशुमाला—(सं. स्त्री.) किरणों का समूह।
 अंशुमाली—(सं. पुं.) सूर्य, १२ की संख्या।
 अंशुल—(सं. पुं.) चतुर मनुष्य, पण्डित।
 अंशुहस्त—(सं. पुं.) सूर्य, मरीचिमाली।
 अंस—(सं. पुं.) स्नान्य, कच्चा।
 अंसरुट—(सं. पुं.) साँड़ की पीठ पर का

ककुद (कूबड़ या उमड़ा हुआ माग)।
 अंसत्र—(सं. पुं.) कन्धे की रक्षा करनेवाला, कवच।
 अंसफलक—(सं. पुं.) स्कन्धास्थि, कन्धे पर की हड्डी।
 अंसुवाना—(हि. क्रि. स.) आँसू से आँखे भर जाना।
 अइया—(हि. स्त्री.) वृद्धा स्त्री, दादी, नानी।
 अड—(हि. अव्य.) और, तथा।
 अउठा—(हि. पुं.) कपड़ा नापने का गज।
 अउलना, अऊलना—(हि. क्रि. अ.) गरमी पड़ना और हवा का रुक जाना।
 अऊण, अऊणी—(सं. वि.) जो ऋण या कर्ज से मुक्त हो।
 अकंटक—(सं. वि.) काँटों से रहित, विघ्न-रहित, निःशत्रु।
 अकंप—(सं. वि.) कंप या कंपन से रहित।
 अकंपित—(सं. वि.) अकंप।
 अक—(सं. पुं.) पाप, दुःख, क्लेश।
 अकच—(सं. पुं.) खल्वाट, जिसके मस्तक में बाल न हों, गंजा, केतु ग्रह।
 अकच्छ—(सं. वि.) नंगा, व्यभिचारी।
 अकड़—(हि. स्त्री.) ऐंठन, मरोड़।
 अकड़-तकड़—(हि. पुं.) गर्व, ऐंठन।
 अकड़ना—(हि. क्रि. अ.) सूखकर कड़ा हो जाना, ठिठुरना, ऐंठना, तनना, हठ करना, गर्व करना, अड़ना, ढिठाई दिखलाना, लड़ने को तैयार हो जाना।
 अकड़वाई—(हि. स्त्री.) शरीर की ऐंठन।
 अकड़वाज—(हि. वि.) घमंडी।
 अकड़म—(सं. पुं.) तन्त्र शास्त्र में प्रयुक्त करने का एक चक्र जिसका योग गुरु-शिष्य की सिद्धि जानने के लिये किया जाता है।
 अकड़ाव—(हि. पुं.) तनाव, खिंचाव, ऐंठन।
 अकत—(हि. वि.) समग्र, संपूर्ण; (अव्य.) पूरी तरह से, विलकुल।
 अकथ—(हि. वि.) न कहने योग्य, अवर्णनीय।
 अकथनीय—(सं. वि.) अवर्णनीय, न कहने योग्य।
 अकथह—(सं. पुं.) अकड़म की तरह प्रयोग करने योग्य एक चक्र।
 अकथित—(सं. वि.) जो कहा न गया हो।
 अकथ्य—(सं. वि.) न कहने योग्य, व्यर्थ।
 अकचक—(हि. पुं.) सोच-विचार, आगा-पीछा, शंका।
 अकनना—(हि. क्रि. स.) आहट लेना, कान लगाकर चुपके से सुनना।
 अकवक—(हि. पुं.) असंबद्ध चार्ता, बड़-

बड़, अंडबंड, बकझक; (वि.) अवाक, मोचकका ।
 अकथकाना—(हि. क्रि. अ.) धवड़ाना, मोचकका होना ।
 अकवर—(अ.पुं.) बादशाह जो हुमायूँ के पुत्र थे ।
 अकवरनामा—(अ.पुं.) शेख अबुल फजल का लिखा हुआ अकवर के समय का इतिहास ।
 अकरोव—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की फलहारी मिठाई; (वि.) अकवर संबंधी, अकवर की बनवाई हुई ।
 अकर—(सं.वि.) न किये जाने योग्य, दुष्कर, विकट, विना हाथ का, विना कर का ।
 अकरकरा—(हि.पुं.) एक प्रकार का पौधा जिसकी जड़ औषधियों में प्रयुक्त होती है ।
 अकरण—(सं.पुं.) कर्म का अभाव, कर्म का फल-रहित होना, इन्द्रिय-रहित ईश्वर ।
 अकरणीय—(सं. वि.) न करने योग्य ।
 अकरा—(हि. वि.) बहुमूल्य, मोल न लेने योग्य, महंगा ।
 अकराय—(हि. वि.) निष्फल, व्यर्थ ।
 अकराल—(सं. वि.) जो भयंकर न हो, सौम्य, रम्य, सुन्दर ।
 अकरास—(हि. पुं.) आलस्य, शरीर का टूटना ।
 अकरासू—(हि. स्त्री.) गर्भवती स्त्री ।
 अकरी—(हि. स्त्री.) हल में बँधा हुआ वह पोला बाँस जिसमें से बोते समय बीज गिराया जाता है ।
 अकरुण—(सं. वि.) करुणाहीन, कठोर ।
 अकर्ण—(सं. वि.) जिसके कान न हों ।
 अकर्तव्य—(सं. वि.) न करने योग्य ।
 अकर्ता—(सं. वि.) कार्य न करनेवाला ।
 अकर्तृक—(सं. वि.) विना कर्ता का ।
 अकर्म—(सं. पुं.) बुरा काम, कुकर्म, न करने योग्य कार्य, पाप, अपराध, अधर्म ।
 अकर्मक—(सं. वि.) कर्मरहित क्रिया, व्याकरण में जिस क्रिया का कर्म न हो ।
 अकर्मण्य—(सं.वि.) आलसी, सुस्त, बेकाम ।
 अकर्मण्यता—(सं. स्त्री.) निकम्मापन ।
 अकर्मा—(हि. वि.) काम न करनेवाला ।
 अकर्मान्वित—(सं. वि.) अयोग्य, पापी, कुकर्मी ।
 अकर्मा—(हि.पुं,वि.) बुरा कार्य करनेवाला, पापी ।
 अकर्पण—(हि. पुं.) आकर्षण, सिंचाव ।
 अकलंक—(सं. वि.) शीपरहित, निष्कलंक, पापरहित ।
 अकलंकता—(सं. स्त्री.) निष्कलंकता,

स्वच्छता ।
 अकलंकित—(सं.वि.) कलंकरहित, निर्दोष ।
 अकाल—(सं. वि.) अवयवरहित, अंश-शून्य, व्यर्थ, निष्फल; (हि. वि.) अलण्ड, निर्गुण; (हि. पुं.) सिक्ख सम्प्रदाय में ईश्वर का एक नाम ।
 अकलखुरा—(हि. वि.) अकेला भोजन करनेवाला, लालची, स्वार्थी, डाह करनेवाला ।
 अकलवर, अकलवीर—(हि. पुं.) भाँग की तरह का एक पौधा ।
 अकल्क—(सं. वि.) विना पाप का, दुष्टताहीन ।
 अकल्पित—(सं. वि.) जो कल्पित न हो, न बनाया हुआ, अकृत्रिम, सहज ।
 अकल्मष—(सं. वि.) पापरहित, निर्दोष ।
 अकल्य—(सं. वि.) आरोग्यहीन, रोगी ।
 अकल्याण—(हि. पुं.) अशुभ, अमङ्गल, मन्द, अकुशल, अहित ।
 अकवन—(हि.पुं.) मदार का पौधा ।
 अकस—(हि. पुं.) शत्रुता, वैर, द्वेष, डाह, विरोध ।
 अकसना—(हि. क्रि. अ.) शत्रुता करना, द्वेष करना ।
 अकसीर—(अ. स्त्री.) अत्यन्त लाम करनेवाली औषधि, सर्वरोगहर औषधि ।
 अकस्मात्—(सं. अव्य.) सहसा, अचानक, अनायास, अकारण ।
 अकांड, अकान्ड—(सं.वि.) विना शाखा या डाली का; (अव्य.) अकस्मात्, हुआत् ।
 अकाज—(हि. वि.) दुष्कर्म, कार्य की हानि, विगाड़, हर्ज, विघ्न ।
 अकाजना—(हि. क्रि. अ.) हानि करना या होना ।
 अकाजी—(हि. वि.) विघ्न करनेवाला, बाधक ।
 अकाट्य—(हि. वि.) जो काटा न जा सके, अटल, दृढ़ ।
 अकातर—(सं. वि.) जो डरपोक या कातर न हो, न डरनेवाला ।
 अकाय—(हि. अव्य.) व्यर्थ, अकार्य ।
 अकापट्य—(सं. पुं.) निश्चलता ।
 अकाम—(हि. वि.) उच्छादरहित, कामनारहित, निस्पृह; (अव्य.) व्यर्थ, निष्प्रयोजन ।
 अकामतः—(सं. अव्य.) विना प्रयोजन के, व्यर्थ ।
 अकामा—(सं. स्त्री.) वह नयनीयना जिनमें काम का प्रादुर्भाव न हुआ हो ।
 अकामी—(सं. वि.) कामनारहित,

निस्पृह, जितेन्द्रिय, जिसको किसी बात की चाह न हो ।
 अकाय—(सं. वि., पुं.) जिसको शरीर न हो, वेदशून्य, निराकार, राहु ग्रह ।
 अकार—(हि. पुं.) आकृति, स्वरूप, रचना बनावट, संगठन, चिह्न; (सं. पुं.) 'अ'-अक्षर या उसका उच्चारण ।
 अकारज—(हि. पुं.) कार्य की हानि, हर्ज, हानि ।
 अकारण—(सं. वि.) कारणहीन, व्यर्थ, निष्प्रयोजन ।
 अकारथ—(हि. वि.) विना लाभ का, बृथा, निष्प्रयोजन ।
 अकारांत—(सं.वि.) जिसके अंत में 'अ' हो ।
 अकारी—(सं. वि.) विना कर्ता का, कार्यहीन ।
 अकार्यण्य—(सं. पुं.) अकृपणता, कंजूसी का अभाव ।
 अकार्य—(सं. पुं.) कार्य का न होना, बुरा काम, हानि, दुष्कर्म, हर्ज ।
 अकाल—(सं. पुं.) बुरा समय, कुसमय, दुर्मिथ, महँगी, अप्राप्तकाल, अनवसर, शुभ कर्म के अयोग्य समय; -कुसुम—(सं. पुं.) असमय का फूल, विना अवसर की बातचीत; -कृष्मांड—(सं.पुं.) अपने परिवार या कुल को हानि पहुँचानेवाला मनुष्य; -जलद—(सं.पुं.) असमय का मेघ; -पुरुष—(सं. पुं.) निकटों के धर्मग्रन्थों में ईश्वर का नाम; -प्रसव—(सं. पुं.) स्त्री को निवृत काल के पूर्व गन्तान उत्पन्न होना; -भृत्य—(सं. पुं.) दास बनाने के लिये दृग्दक्ष में बनाया हुआ मनुष्य; -मूर्ति—(सं. पुं.) अविनायी मूर्ति; -मृत्यु—(सं.स्त्री.) असात्मिक मृत्यु, अमृत्यु; -मेघोदय—(सं.पुं.) विना समय मेघों का देस पड़ना; -मृष्टि—(सं. स्त्री.) कुसमय की वर्षा ।
 अकालिक—(सं. वि.) असात्मिक, विना अवसर का ।
 अकाली—(सं. पुं.) सिक्खों का एक सम्प्रदाय, इस पंथवादी अकाल पुरुष का जप करते हैं। मिर पर कोई भी चक्र धारण करने हैं और कान्हे से की पगड़ी बाँधे हैं ।
 अकाव—(हि. पुं.) अकं, मदार ।
 अकास—(हि. पुं.) आकाश, गगन, आकाश; -सीमा—(हि.पुं.) वह सीमा जो कान्ठि महाने में बड़ी ऊँचाई पर लटकता जाता है; -सीम—(हि. स्त्री.) आकाशनिम्न, सुन्दर

पत्नियोंवाला एक वृक्ष; -वानी-(हि.स्त्री.) आकाशवाणी, देववाणी; -बेल-(हि. स्त्री.) अमरबेल, आकाश वौर।
अकासी-(हि. स्त्री.) ताड़ का वृक्ष।
अकिंचन-(सं. वि.) जिसके पास कुछ भी न हो, अति दरिद्र, कंगाल, परिग्रह-त्यागी, संग्रहत्यागी, जैन मतानुसार ममता की निवृत्ति।
अकिंचनता-(सं. स्त्री.) निर्धनता, दरिद्रता।
अकिंचनत्व-(सं. पुं.) दरिद्रता, निर्धनता।
अकिंचित्कर-(सं. वि.) जो कुछ न करने योग्य हो, असमर्थ, अशक्त।
अकिंचितज्ञ-(सं. वि.) कुछ न जाननेवाला, ज्ञानशून्य।
अकिल-(हि. स्त्री.) ज्ञान, बुद्धि; -बहार-(हि. पुं.) वैजयंती का पौधा, इसके फूलों से उत्पन्न काला दाना।
अकिल्बिष-(सं. वि.) पापरहित।
अकीर्ति-(सं. स्त्री.) अपयश, दुर्नाम; -कर-(सं. वि.) अपयश (दुर्नाम) करनेवाला।
अकुंठ-(सं. वि.) जो कुंठित न हो, तीव्र, प्रतिभायुक्त, कार्यदक्ष।
अकुटिल-(सं. वि.) जो टेढ़ा न हो, सीधा, निष्कपट।
अकुटिलता-(सं. स्त्री.) सीधापन, निष्कपटता।
अकुताना-(हि. क्रि. अ.) धवड़ाना, ऊबना, उतावला होना।
अकुतोभय-(सं. वि.) जिसको किसी का भय न हो, निर्माक, निःशंक, साहसी।
अकुप्य-(सं. स्त्री.) सोना, चांदी।
अकुमार-(सं. वि.) जिसकी कुमारावस्था वीत गई हो, युवा।
अकुल-(सं. वि.) परिवारहीन, कुलरहित, जो अच्छे वंश का न हो; (पुं.) महादेव, शिव।
अकुलाना-(हि. क्रि. अ.) धवड़ाना, व्याकुल होना, ऊबना, शीघ्रता करना, वैचैन होना, आवेश में होना।
अकुलिनी-(हि. वि.) जो कुलवती न हो, कुलटा, व्यभिचारिणी।
अकुलीन-(सं. वि.) नीच वंश का, बुरे कुल का, क्षुद्र, कुलहीन, संकर जाति का।
अकुशल-(सं. पुं.) अमंगल, अशुभ, अहित, बुराई; (वि.) जो निपुण या दक्ष न हो, अनिपुण, अनाड़ी।
अकृत-(हि. वि.) जो कृता न जा सके, जिसकी गिनती, तौल या नाप न चललाई

जा सके, अपरिमित, अगणित।
अकूपार-(सं. पुं.) जिसका पार थोड़ा न हो, समुद्र, पर्वत, सूर्य, पत्थर, चट्टान, वह कच्छप जिसकी पीठ पर शेष-नाग हैं, जिनके फन पर पृथ्वी घरी हुई मानी जाती है।
अकूर्च-(सं. वि.) बिना मूँछ का; (पुं.) बुद्धदेव।
अकृच्छ-(सं. पुं.) जिसको किसी प्रकार का क्लेश या संकट न हो, संकोचरहित, सुगम।
अकृत-(सं. वि.) बिना किया हुआ, असम्पन्न, असंपादित, बिगाड़ा हुआ, जो अपराध न किया गया हो, जो किसी से बनाया न गया हो, नित्य, प्राकृतिक, मन्द; (पुं.) प्रकृति, स्वभाव; -काल-(सं. वि.) जिसके लिये कोई समय स्थिर न किया गया हो।
अकृतघ्न-(सं. वि.) उपकार माननेवाला।
अकृतज्ञ-(सं. वि.) किये हुए उपकार को न माननेवाला, कृतघ्न।
अकृताभ्यागम-(सं. पुं.) बिना किये हुए कर्म की फलप्राप्ति, तर्क शास्त्र का एक दोष।
अकृतार्थ-(सं. वि.) जिसका कार्य पूरा न हुआ हो, फलों से वञ्चित, असफल।
अकृति, अकृतो-(सं. स्त्री.) काम न करने योग्य, जो किसी काम के योग्य न हो, निकम्मा, पापी, अयोग्य।
अकृतित्व-(सं. पुं.) अयोग्यता।
अकृत्य-(सं. पुं.) दुष्कर्म, अकार्य, अनुपयुक्त काल में कोई कार्य करना।
अकृत्रिम-(सं. वि.) जो काल्पनिक न हो, नैसर्गिक, स्वाभाविक, वास्तविक, सच्चा, आन्तरिक, स्वयं उत्पन्न, हार्दिक, यथार्थ।
अकृप-(सं. वि.) कृपारहित, निर्दय।
अकृपण-(सं. वि.) जो कंजूस न हो, मुक्तहस्त, उदार।
अकृपा-(सं. स्त्री.) क्रोध, अप्रसन्नता, रोष।
अकृष्ट-(सं. वि.) जो जोती न गयी हो।
अकृष्टकर्म-(सं. पुं.) निर्दोषता, सदाचार।
अकृष्टपच्य-(सं. वि.) जो स्वयं ही अर्थात् बिना जोते-बोये उत्पन्न होकर पक जावे।
अकेतन-(सं. वि.) जिसके पास घर-द्वार न हो, बिना ठिकाने का।
अकेतु-(सं. पुं.) अज्ञान, ज्ञानरहित।
अकेल, अकेला-(हि. वि.) जिसका कोई साथी न हो, एकाकी, अद्वितीय, अनुपम, निराला।
अकेले-(हि. अव्य.) बिना साथी के, अकेला ही, (मुहा.)-डुकेले-अकेले।

अकेश-(सं. वि.) जिसके केश या बाल न हों।
अकैतव-(सं. वि.) कपटहीन, निश्चल, सदाचारी।
अकया-(हि. पुं.) खुरजी, गोन, कवाजा, पशुओं की पीठ पर लादने का थैला या टोकरी।
अकोट-(सं. पुं.) सुपारी, असंख्य, करोड़ों।
अकोतर सौ-(हि. वि.) एक सौ एक की संख्या।
अकोप-(हि. पुं.) कोपका अभाव, प्रसन्नता।
अकोर-(हि. पुं.) छाती, अंक, गोद, घूस।
अकोविद-(सं. वि.) जो पंडित न हो, मूर्ख, अज्ञानी; (पुं.) ऊख के सिर पर की पत्ती।
अकोसना-(हि. क्रि. स.) गाली देना, कोसना, मला-बुरा कहना।
अकौआ-(हि. पुं.) मदार, आक, गले की घंटी।
अकौटा-(हि. पुं.) पहिये का घुरा।
अकौटिल्य-(हि. पुं.) सरलता, निष्कपटता।
अकौशल-(सं. पुं.) कुशलता का अभाव, विरोध।
अक्का-(सं. स्त्री.) माता, अम्मा, पुंकारने का शब्द।
अक्खड़-(हि. वि.) हठी, उद्धत, उग्र, लड़ाका, अशिष्ट, निडर, मूर्ख, स्पष्टवक्ता, खरा, स्थिरप्रतिज्ञ, उच्छृङ्खल, न डिगनेवाला।
अक्खड़पन-(हि. पुं.) हठ, अशिष्टता, कठोरता, खरापन, मूर्खता।
अक्खा-(हि. पुं.) पशुओं की पीठ पर लादने का बोरा, खुरजी, पाखड़ी।
अक्खोमक्खो-(हि. पुं.) एक टोटका जिसको स्त्रियाँ दीपक जलाकर बच्चे के मुख के चारों ओर फेरती हैं।
अक्व-(पुं. वि.) व्याप्त, संयुक्त, सफल, परिपूर्ण, रंगा हुआ, गीला, मरा हुआ; (वि. प्रत्य.) यह शब्द प्रत्यय की तरह शब्दों के अन्त में जोड़ा जाता है; यथा-रक्ताक्त, विषाक्त, इत्यादि।
अक्ता-(सं. स्त्री.) रात।
अक्-(सं. वि.) स्थिर, दृढ़।
अक्रतु-(सं. वि.) संकल्परहित।
अक्रम-(सं. वि.) जिसमें क्रम न हो, विपरीत, उलटा-पुलटा, क्रमरहित; -संन्यास-(सं. पुं.) वह संन्यास जो ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ आश्रमों के पालन न करने पर ही ले लिया जाता है।
अक्रमातिशयोक्ति-(सं. स्त्री.) अर्थालंकार का एक भेद जिसमें कारण के

साथ ही कार्य सूचित रहता है, यह अति-शयोक्ति का एक भेद है।

अक्रव्याद-(सं. पुं.) मांस न खानेवाला।
अक्रांत-(सं. वि.) जिसे कोई क्रांत या पार न किया हो, अपराजित।

अक्रांता-(सं. स्त्री.) एक वृक्ष विशेष, कटैया।

अक्रिय-(सं. वि.) क्रियारहित, निश्चेष्ट, स्तब्ध, निकम्मा।

अक्रिया-(सं. स्त्री.) अप्रशस्त कार्य।

अक्रूर-(सं. वि.) जो क्रूर न हो, कोमल, सरल, सुशील, दयालु, अक्रोधी; (पुं.) श्रीकृष्ण के चाचा का नाम।

अक्रोध-(सं. पुं.) क्रोध का अभाव, दया, क्षमा, सहिष्णुता।

अक्ल-(अ. स्त्री.) बुद्धि, समझ; (मुहा.)

-आना-समझ होना; -का काम न करना-कुछ समझ में न आना; -का चरन जाना-समझने की शक्ति का अभाव होना; -का दुश्मन-मूर्ख;

-का पूरा-मूर्ख; -खर्च करना-बुद्धि लगाना; -गुम होना-बुद्धि का लोप होना; -ठिकाने होना-होश में आना;

-पर पत्थर पड़ना-बुद्धि का नष्ट होना।

अक्लमंद-(अ. वि.) बुद्धिमान।

अक्लमंदी-(अ. स्त्री.) बुद्धि।

अक्लम-(सं. पुं.) श्रम का अभाव, थकावट का न होना।

अक्लान्त-(सं. वि.) ग्लानिरहित।

अक्लिष्ट-(सं. वि.) विना क्लेश का, दुःखरहित, सहज, सीधा, सरल, सुगम।

अक्लिष्टकर्मा-(सं. वि.) जो विना कष्ट के कार्य कर सके।

अक्लेष-(सं. पुं.) क्लेष का अभाव, सुगमता।

अक्ष-(सं. पुं.) जुआ खेलने का पासा, पासे का खेल, चौपड़, छकड़ा, गाड़ी का धुरा, पृथ्वी की घुरी, गाड़ी का जुआ, पृथ्वी के भीतर की वह कल्पित रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है, जो पृथ्वी के केन्द्र से होती हुई दोनों ध्रुवों में मिलती है, तराजू की डंडी, व्यापार, इंद्रिय, तृतिया, सोहागा, आंवला, बहेड़ा, रुद्राक्ष, आत्मा, गरुड़, सर्प, सोलह मासे की तौल, व्याप्ति, रसांजन, जन्मांब, रावण के एक पुत्र का नाम जिसको हनुमान् ने मारा था, ग्रहों के भ्रमण करने का मार्ग।

अक्षक-(सं. पुं.) पासे से जुआ खेलनेवाला, जुआरी।

अक्षकुमार-(सं. पुं.) रावण के एक पुत्र का नाम।

अक्षकूट, अक्षकूटक-(सं. पुं.) आँख की पुतली।

अक्षक्रोड़ा-(सं. स्त्री.) चौपड़, पासे का खेल, चौसर।

अक्षक्षेत्र-(सं. पुं.) अखाड़ा, मल्लयुद्ध का स्थान, दंगल।

अक्षज-(सं. पुं., वि.) वज्र, आँखों से या इन्द्रियों से उत्पन्न, विवाद से उत्पन्न।

अक्षणिक-(सं. वि.) स्थिर, निश्चल।

अक्षत-(सं. वि.) अखण्डित, विना टूटा हुआ, जिसमें घाव न लगे हों; (पुं.) गणित में पूर्णाङ्क (जो भिन्न न हो), विना टूटे हुए चावल जो पूजन में व्यवहृत होते हैं, घान का लावा, जव।

अक्षतयोनि-(सं. स्त्री.) वह योनि जिसमें वीर्यपात न हुआ हो, वह कन्या जिसने पुरुष के साथ संसर्ग न किया हो।

अक्षतवीर्य-(सं. पुं.) पुरुष जिसका ब्रह्मचर्य अखंड हो, जिसने स्त्री-प्रसंग न किया हो।

अक्षता-(सं. स्त्री.) अक्षतयोनि, काकड़ा-सिंधी नामक ओषधि विशेष।

अक्षधर-(सं. पुं.) साखू का वृक्ष, विष्णु का चक्र।

अक्षपटल-(सं. पुं.) आँख की पलक, आँख का एक रोग।

अक्षपाद-(सं. पुं.) न्याय शास्त्र के प्रवर्तक गौतम ऋषि, नैयायिक, तार्किक।

अक्षम-(सं. वि.) क्षमारहित, अशक्त, असहिष्णु, विवश, असमर्थ।

अक्षमता-(सं. स्त्री.) असामर्थ्य, असहिष्णुता, ईर्ष्या।

अक्षमा-(सं. स्त्री.) क्षमा का अभाव, ईर्ष्या।

अक्षमाला-(सं. स्त्री.) रुद्राक्ष की माला, गुरु वशिष्ठ की पत्नी का नाम।

अक्षम्य-(सं. वि.) क्षमा न करने योग्य।

अक्षय-(सं. वि.) जिसका क्षय न हो, अनश्वर, कभी नष्ट न होनेवाला, शाश्वत, अमर; - कुमार - (पुं.) रावण के एक पुत्र का नाम; -तृतीया - (स्त्री.) वंशाख गुक्ल तृतीया; इसी तिथि से सतयुग का आरंभ

माना जाता है। इस तिथि को हिन्दू लोग पुनीत मानते हैं और गंगा-स्नान तथा पुण्य करते हैं; -नवमी- (स्त्री.) कार्तिक शुक्ल नवमी।

इस तिथि से त्रेतायुग का आरंभ माना जाता है। इस तिथि को हिन्दू लोग पुनीत मानते हैं; -ललिता-(स्त्री.) माद्रपद मास की सप्तमी, इस दिन स्त्रियाँ शिव-दुर्गा का पूजन करती हैं; -वट-(पुं.) वरगद का पूज्य वृक्ष। ऐसा एक प्राचीन वट प्रयाग के किले के भीतर है तथा दूसरा गया क्षेत्र में है। पुराण के अनुसार इसका नाश प्रलयकाल में भी नहीं हुआ था। पुराणानुसार इस वृक्ष का पूजन करने से अक्षय फल मिलता है।

अक्षया-(सं. स्त्री.) सोमवार की अमावस्या, रविवार की सप्तमी, मंगलवार की चतुर्थी तथा अक्षय तृतीया—अक्षया तिथि कहलाती हैं।

अक्षय्य-(सं. पुं.) श्राद्ध में पिंड-दान के बाद घृत तथा मधु मिला हुआ वह जल जो पितरों को अर्पण किया जाता है।

अक्षय्योदक-(सं. पुं.) पिंड-दान के बाद मधु तथा तिल मिलाया जल।

अक्षर-(सं. पुं.) ब्रह्मा, शिव, विष्णु, मोक्ष, जल, गगन, धर्म, तपस्या, अपा-मार्ग (चिचिड़ा), अकारादि वर्ण; (वि.) अविनाशी, स्थिर, नित्य।

अक्षरछंद-(सं. पुं.) वर्णवृत्त, अक्षरों की गणना से रचा हुआ छन्द।

अक्षरजीवी-(सं. पुं.) लेखक।

अक्षर-तूलिका-(सं. स्त्री.) लेखनी, चित्रकार की कूची।

अक्षरन्यास-(सं. पुं.) लेखन, लिपि, तंत्र के अनुसार अकारादि अक्षरों को क्रम से एक-एक करके उच्चारण करना और उसके अनुसार शरीर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करना।

अक्षरमाला-(सं. स्त्री.) वर्णमाला।

अक्षरलिपि-(सं. स्त्री.) अक्षरों को लिखने की रीति।

अक्षर-विन्यास-(सं. पुं.) लिपि, लेख।

अक्षरज्ञा-(सं. अव्य.) अक्षर-अक्षर करके या मिलता हुआ।

अक्षरी-(सं. स्त्री.) शब्दों में अक्षरों का क्रम, वर्णाकृतु।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला, अक्षरों के लिखने की रीति, सितार पर गत निकालने की क्रिया।

अक्षांश—(सं. पुं.) देखें 'अक्ष'; पृथ्वी की मर्ग, जिन अक्ष पर पृथ्वी घूमती है।
 अक्षि—(सं. पु.) नयन, नेत्र, आँख।
 अक्षिगत—(सं. वि.) आँख पर चढ़ा हुआ (बैरो), देखा हुआ।
 अक्षि-निलेप—(सं. पुं.) कटाक्ष, सैन।
 अक्षि-विभ्रम—(सं. पुं.) आँख घुमाना।
 अक्षुण्ण—(सं. वि.) बिना टूटा हुआ, सम्पूर्ण, अविभक्त।
 अक्षुण्ण—(सं. वि.) श्रेय या क्षोभरहित।
 अक्षोहिणी—(सं. स्त्री.) चतुरंगिणी सेना जिसमें १०९३५० पदाति, ६५६१० घोड़े, २१८७० हाथी और २१८७० रथ रहते थे।
 अक्षत—(सं. वि.) बिना खंड या टुकड़े का, पूर्ण, पूरा, सब।
 अक्षतनीय—(सं. वि.) जिसका टुकड़ा न हो सके, दृढ़, पुष्ट, अटूट।
 अक्षतित—(सं. वि.) बिना खंड का, पूरा, सम्पूर्ण।
 अक्षरिया—(हि.पुं.) जिस घोड़े के शरीर को मलते समय चित्रगरियाँ निकलें।
 अक्षर—(हि. वि.) अक्षिपट, गँवार, अमन्य, जंगली, अनारी।
 अक्षर—(हि. पुं.) चँदवा, मछलियों के पकड़ने का एक साधन।
 अक्षर—(हि. पुं.) पहलवान।
 अक्षरना—(हि.क्रि.अ.) बुरा लगना, अनुचित जान पड़ना, कष्ट होना।
 अक्षरोट—(हि. पुं.) कड़े छिलके का एक पहाड़ी फल।
 अक्षर—(सं. वि.) बहुत बड़ा।
 अक्षर—(हि. पुं.) झील, खाड़ी।
 अक्षर—(हि. पुं.) मल्लयुद्ध करने का स्थान, साधुओं का दल।
 अक्षरिया—(हि.वि.) दंगली (पहलवान)।
 अक्षर—(सं. वि.) जो खाने योग्य न हो, अमन्य।
 अक्षरिणी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की टेढ़ी लकड़ी जो अनाज दाँवते समय डंठल अलगाने के काम में आती है, पाँचा।
 अक्षर—(सं. वि.) रोदरहित, अवलेश।
 अक्षर—(सं. वि.) सम्पूर्ण, पूरा, सब।
 अक्षरालाभा, अक्षरालेश—(सं. पुं.) ईश्वर।
 अक्षर—(हि. वि.) अन्त, अक्षय, वति, अधिक, चतुर।
 अक्षर—(हि. पुं.) आगे, मृगया।
 अक्षर—(हि. पुं.) आगे करनेवाला।
 अक्षर—(सं. वि.) जिसे वेद या दुःख न हो; (पुं.) वेद का अनाथ।

अखेदी—(सं. वि.) अखेद।
 अखोर—(हि. वि.) सुन्दर, निर्दोष, सज्जन; (पुं.) बुरी वस्तु।
 अखोह—(हि. पुं.) ऊँची-नीची भूमि।
 अख्यात—(सं. वि.) अप्रसिद्ध।
 अख्याति—(सं. स्त्री.) अप्रसिद्धि, अपकीर्ति, अयश।
 अग—(सं.वि.) न चलनेवाला, स्थावर, टेढ़ा चलनेवाला; (वि.) सर्प, वृक्ष, पर्वत, सूर्य।
 अगटना—(हि.क्रि.अ.) इकट्ठा होना।
 अगडघत, अगडघत्ता—(हि. वि.) लंबा-चौड़ा, ऊँचा, तगड़ा, विशालकाय।
 अगड-वगड—(हि. वि.) व्यर्थ, अंडबंड; (पुं.) निरर्थक वार्ता या कार्य।
 अगणित—(सं. वि.) जिनकी गणना न हो सके, असंख्य, अनगिनत, अनेक।
 अगण्य—(सं.वि.) न गिनने या गणना करने योग्य, असंख्य, असार।
 अगत—(हि. अव्य.) हाथी को आगे बढ़ाने के लिये महावत इस शब्द का प्रयोग करते हैं; (सं. वि.) न गया हुआ।
 अगति—(सं. स्त्री.) बुरी गति, अव्यवस्था, दुर्दशा, नरक, अकालमृत्यु।
 अगतिक—(सं. वि.) निराश्रय, अशरण।
 अगतिकगति—(हि. स्त्री.) विवश होकर स्वीकार करना।
 अगत्या—(सं. अव्य.) अन्त में, अकस्मात्।
 अगत—(सं. पुं.) ओषधि; (वि.) आरोग्य, रोगरहित, चंगा।
 अगम—(हि. वि.) अगम्य, न जानने योग्य, दुर्गम, दुर्घट, अपार, बहुत गहरा, असंख्य।
 अगमानी—(हि. स्त्री.) अतिथि आदि का जाकर स्वागत करना; (पुं.) नेता, सरदार।
 अगम्य—(सं.वि.) न जानने या जाने योग्य, विकट, दुर्बोध, अपार, अज्ञेय, असंख्य।
 अगम्या—(सं. वि. स्त्री.) गमन न करने योग्य, अंतज्या।
 अगम्यागमन—(सं. पुं.) संभोग न करने योग्य स्त्री के साथ सहवास।
 अगर—(हि. पुं.) एक सुगंधित वृक्षविशेष, अगरु; (फा. अव्य.) यदि।
 अगरई—(हि. वि.) अगरु के रंग का, कालापन लिये सुनहले रंग का।
 अगरना—(हि.क्रि.अ.) आगे बढ़ना, भागना।
 अगरपार—(हि. पुं.) क्षत्रिय जाति का एक भेद।
 अगरवती—(हि. स्त्री.) धूपवती जिसमें अगरु तथा अन्य सुगंधित द्रव्य पड़े होते हैं।
 अगरवाल, अगरवाला—(हि. पुं.) वैश्य

वर्ण की एक शाखा। ये लोग पंजाब प्रान्त में अगरोहा नामक प्राचीन नगर के आदिनिवासी थे; इसी से इनका नाम अगरवाला पड़ा। इनमें से अधिकांश वैष्णव तथा जैन होते हैं।
 अगरसार—(हि. पुं.) अगरु का सत्व।
 अगरी—(हि. स्त्री.) देवदार, चूहे का विष उतारने की जड़ी, अगला, सिटकिनी।
 अगरु—(सं. पुं.) अगरु की लकड़ी, ऊद।
 अगरु—(हि. पुं.) अगर, ऊद।
 अगरो—(हि. वि.) पहिला, अगला, अधिक, श्रेष्ठ।
 अगर्व—(सं. वि.) गर्वरहित, बिना अभिमान का, भोलाभाला।
 अगहित—(सं. वि.) निन्दा न किया हुआ, प्रशंसित।
 अगल-वगल—(हि. अव्य.) आस-पास।
 अगला—(हि. वि.) आगे का, पहिला, सामने का, प्राचीन, आगामी, पुराना, दूसरा; (पुं.) अग्रसर, नेता, प्रधान पुरुष, पूर्वपुरुष, चंचल आदमी, धूर्त मनुष्य।
 अगवासी—(हि. स्त्री.) हल की वह लकड़ी जिसमें फार जड़ा जाता है, अगवार।
 अगवाई—(हि. स्त्री.) स्वागत करने के लिये आगे जाना, अगवानी, अभ्यर्थना।
 अगवाड़ा—(हि.पुं.) घर के सामने का स्थान।
 अगवान—(हि. पुं.) स्वागत करने के लिये आगे जानेवाला, अगवानी करनेवाला।
 अगवानी—(हि. स्त्री.) आगे बढ़कर स्वागत, विवाह के समय कन्यापक्षवालों का वरपक्षवालों की अभ्यर्थना; (पुं.) अग्रसर, अगुआ, नेता।
 अगवार—(हि. पुं.) घर के सामने का स्थान, गाँव का चमार, अन्न के ढेर का वह अंश जो खलिहान में से हलवाड़े को देने के लिये अलगा दिया जाता है, ओसाते समय जो हलका अन्न मूसे के साथ उड़कर आगे चला जाता है।
 अगस्ति—(सं. पुं.) अगवार, वक वृक्ष, मौलसिरी, दक्षिण दिशा।
 अगस्तिपा—(हि. पुं.) एक वृक्ष विशेष।
 अगस्त्य—(सं. पुं.) वक वृक्ष, एक तारे का नाम जो भाद्रपद मास में उदय होता है, एक महर्षि जो मित्रावरुण के पुत्र थे।
 अगस्त्यकूट—(सं. पुं.) भारतवर्ष के दक्षिण में इस नाम का पर्वत जिसमें से ताम्रपर्णी नदी निकली है।
 अगस्त्यगीता—(सं. स्त्री.) महाभारत के शान्तिपर्व में लिखी हुई अगस्त्य मुनि से कही हुई गीता या विद्या।

अगस्त्यचार—(सं. पुं.) अगस्त्य नक्षत्र का उदय ।
 अगस्त्य-संहिता—(सं. स्त्री.) अगस्त्य मुनि रचित शास्त्र ।
 अगस्त्योदय—(सं. पुं.) दक्षिण दिशा में अगस्त्य नक्षत्र का उदय ।
 अगह—(हिं. वि.) जो ग्रहण न किया जा सके, न वर्णन करने योग्य, कठिन ।
 अगहन—(हिं. पुं.) अग्रहायण, मार्ग-शीर्ष, वेद की प्राचीन शैली के अनुसार वर्ष का पहिला महीना, उत्तरी भारत में चैत्र में वर्ष आरंभ होता है, तदनुसार नवां महीना ।
 अगहनियाँ—(हिं. वि.) अगहन संबंधी, वह वान जो अगहन के महीने में काटा जाता है ।
 अगहनौ—(हिं. वि.) अगहन या मार्ग-शीर्ष में उत्पन्न होनेवाला ।
 अगहर—(हिं. वि., अव्य.) पहिला, आगे का, पहिले ।
 अगहाट—(हिं. पुं.) वह भूमि जो बहुत दिनों से किराी के अधिकार में रही हो और उससे निकाली न जा सके ।
 अगहूँड—(हिं. वि.) अग्रगामी, आगे चलनेवाला, मुख्य, अगुआ ।
 अगाऊ—(हिं. वि.) अग्रिम; (अव्य.) पहिले से ।
 अगाड़—(हिं. पुं.) आगे का भाग, हुक्के की निगाली, डेकुल की लकड़ी ।
 अगाड़ा—(हिं. पुं.) यात्रा की पहिले से भेजी हुई सामग्री, कछार ।
 अगाड़ी—(हिं. अव्य.) भविष्य में, सामने, आगे, पहिले; (स्त्री.) पदार्थ का अग्र-भाग, घोड़े की गर्दन में बाँधने की रस्सी, सेना का प्रथम आक्रमण ।
 अगाघ—(सं. वि.) बिना शरीर का ।
 अगाघ—(सं. वि.) बहुत गहरा, अघाह, अमीग, गंभीर, लोमहीन, अपार ।
 अगाघ—(हिं. पुं.) अगौरा, ऊपर के पीचे के ऊपर का भाग ।
 अगास—(हिं. पुं.) आकाश, तार पर का चक्रतरा ।
 अगाह—(हिं. वि.) देनों 'अगाघ' ।
 अगिआना—(हिं. क्रि. अ.) गरम होना, जलन जान पड़ना ।
 अगिनघोट—(हिं. पुं.) घुवाकस, स्टीमर ।
 अगिया—(हिं. स्त्री.) अग्नि, आग, एक प्रकार की घान जो फोंदी और ज्वार के छोटे घोंगे की उखा देती है, नीचे के समान घोंगे की एक घान, पन्जुआं

का एक रोग, राजा विक्रमादित्य के एक वैताल का नाम; —कोइलिया—(पुं.) राजा विक्रमादित्य के इन दोनों नामों के सिद्ध वैताल; —वैताल—(पुं.) मुँह से आग फेंकनेवाला मूत, राजा विक्रमादित्य का एक सिद्ध वैताल, दल-दली गैस ।

अगियाना—(हिं. क्रि. अ.) जलन होना ।
 अगियारी—(हिं. स्त्री.) धूप देने की क्रिया ।
 अगिर—(सं. पुं.) अग्नि, स्वर्ग, सूर्य, राक्षस ।
 अगिला—(हिं. वि.) पहिला, सामने का ।
 अगिहाना—(हिं. पुं.) अग्नि रखने का स्थान, चूल्हा, अंगीठी, भट्ठी ।
 अगौठा—(हिं. पुं.) बड़ी अंगीठी, भट्ठा ।
 अगीत-पछीत—(हिं. अव्य.) आगे-पीछे, इधर-उधर; (पुं.) सामने और पीछे का भाग ।
 अगु—(सं. पुं.) किरणशून्यता, राहु ग्रह ।
 अगुआ—(हिं. पुं.) आगे जानेवाला, मार्ग-दर्शक, सरदार, नेता, मुखिया ।
 अगुआई—(हिं. स्त्री.) पथप्रदर्शन का कार्य, मुखियापन ।
 अगुआना—(हिं. क्रि. अ., स्त्री.) मार्ग दिखलाना, मुखिया या नेता बनना ।
 अगुआनी—(हिं. स्त्री.) आगे बढ़कर स्वागत करना ।
 अगुण—(सं. पुं., वि.) गुणरहित, निर्गुण, दोष ।
 अगुणज्ञ—(सं. वि.) गुणों को न जाननेवाला, परख न करनेवाला ।
 अगुणी—(हिं. वि.) गुणहीन, गंवार ।
 अगुरु—(सं. पुं.) अगुरुचन्दन, शीशम का वृक्ष; (वि.) जो गुरु न हो, गौरवहीन ।
 अगुवा—(हिं. पुं.) आगे चलनेवाला, पथ-प्रदर्शक, मुखिया, नेता ।
 अगूढ़—(सं. वि.) अगुप्त, जो गुप्त न हो, स्पष्ट, प्रकट, सरल; —गंध (धा)—(सं. पुं.) जिसकी गन्ध छिप न सके, हिङ्गु, हींग ।
 अगुह्य—(सं. वि.) न ग्रहण करने योग्य ।
 अगुद्र—(सं. पुं.) पर्वतों का राजा हिमालय, सुमेरु ।
 अनेला—(हिं. पुं.) हाथ में पहिने का सबसे आगे का आभूषण, नुमे के नाथ उड़नेवाला हल्ला अन्न ।
 अनेह—(सं. वि.) जिसके पान घर-घर न हो, गृहहीन ।
 अगेई—(हिं. वि.) जो गुप्त न हो, प्रकट ।
 अगीचर—(सं. वि.) जो इंद्रियों से न जाना जा सके, अज्ञान, अरुचि, अयोग्य ।
 अगेट—(हिं. स्त्री.) रोप, नील, नीप ।

अगेटना—(हिं. क्रि. अ.) रोकना, अटकाना, पकड़ रचना ।
 अगोता—(हिं. अव्य.) गन्गुन, आगे की ओर; (पुं.) स्वागत ।
 अगेरवार—(हिं. पुं.) पहरेवा, रक्षक, चौकीदार ।
 अगेरना—(हिं. क्रि. अ.) पहरा देना, रखा-वाली करना, रक्षा करना, रोकना, प्रतीक्षा करना, छेकना ।
 अगेरा—(हिं. पुं.) पहरेवा, रखावाला ।
 अगेरिया—(हिं. पुं.) नेत्र की या दृष्ट के फलों की रखवाली करनेवाला मनुष्य ।
 अगेही—(हिं. पुं.) नोकिली भोगवाला बिल ।
 अगेह—(हिं. पुं.) अग्रिम, पहिले दिया जानेवाला रुपया ।
 अगेनी—(हिं. स्त्री.) अगवानी, अभ्यर्थना; (अव्य.) आगे, पहिले ।
 अगेली—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की नाटी ऊपर, नाटे कद का गता ।
 अग्नायी—(सं. स्त्री.) अग्नि देवता की स्त्री, स्वाहा, प्रेता युग ।
 अग्नि—(सं. पुं.) पावक, वहि, अनल, आग, वैद्यक मत के अनुसार अग्नि के तीन भेद हैं :—(१) नोमानि—जो लकड़ी इत्यादि के जलने से उत्पन्न होती है, (२) दिव्याग्नि—जो आकाश में विद्युत् रूप में दीप्त पड़ती है, (३) जठराग्नि—जो नाभि के ऊपर और हृदय के नीचे रहकर अन्न को पचाती है । कर्मकांड के अनुसार अग्नि ६ है—(१) गार्हपत्य, (२) आहवनीय, (३) दक्षिणाग्नि, (४) गन्ध्याग्नि, (५) आचमन्य, (६) औपासनाग्नि । ऋग्वेद की उदात्ति अग्नि ने भागी जाती है । वेद ने अग्नि के भेद भी ब्रह्म है । अग्नि की मात क्रियाएँ निम्नलिखित हैं—गमती, कर्मती, मनोजवा, मुग्धा, पारस्वती, उदा और प्रथिता । यह दक्षिण-पूर्व कोण के अतिरिक्त देवता है; —र—(सं. पुं.) इन्द्रगोप, वीरबट्टी का नाम का एक कौमार; —राम—(सं. पुं.) रघुनिन्द, विभागी; —राम—(सं. पुं.) राम, बिजा से जान गमने का शक्ति; —रारिका—(सं. स्त्री.) गुरु दक्षिणाग्नी औपासि; —रार्य—(सं. पुं.) आग जलने का कार्य, जलन; —रार्य—(सं. पुं.) अन्न की रार्य; —रार्य—(सं. पुं.) गौरव करने का गुण; —रार्य—(सं. पुं.) गौरव पथी; —रार्य—

(सं. पु.) कुमार, कार्तिकेय; -कुल- एक राजवंशविशेष; -केतु- (सं.पु.) ऊर्ध्वगामी अग्नि की ज्वाला; -कोण- (सं. पु.) पूर्व और दक्षिण का कोण; -क्रिया- (सं. स्त्री.) अंत्येष्टि क्रिया, शव जलाने की क्रिया; -क्रीड़ा- (सं. स्त्री.) आग का खेल; -गर्भ- (सं. पु.) सूर्यकांत मणि; (सं. स्त्री.) शमी का वृक्ष, ववूल; -गर्भपर्वत- (सं.पु.) ज्वालामुखी पहाड़; -गर्भा- (सं. स्त्री.) शमी, लता; -गृह- (सं. पु.) जिस घर में हवन किया जावे; -घृत- (सं. पु.) क्षुधा-वर्धक ओषधि-युक्त घृत; -चक्र- (सं. पु.) तंत्रानुसार दोनों मीलों के बीच का स्थान जिसमें विजली के समान प्रकाश रहता है (नेत्रत्रय); -चित्त- (सं. वि.) अग्निहोत्री; -ज- (सं. पु.) कार्तिकेय, सुवर्ण, सोना; -जन्मा- (सं. पु.) कार्तिकेय, सुवर्ण, सोना; -जार, -जाल- (सं. पु.) एक वृक्ष विशेष; -जिह्वा- (सं. स्त्री.) अग्नि की सात शिखा; -ज्वाला- (सं. स्त्री.) अग्नि-शिखा, आग की लपट; -झाल- (हि. स्त्री.) जलपिप्पली नाम की ओषधि; -तापस- (सं. पु.) अपने चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या करनेवाला; -तुंडी- (सं. स्त्री.) अग्नि-मांछ दूर करने की विशेष ओषधि; -द- (सं. पु.) आग लगानेवाला शत्रु; -दग्ध- (सं. वि.) आग से जलाया हुआ; -दमनी- (सं. स्त्री.) मकोय; -दाता- (सं. पु.) (स्त्री. अग्निदात्री) अंत्येष्टि-क्रिया में मुखानि देनेवाला स्वजन; -दाह- (सं. पु.) आग जलाना, शव फूंकना; -दीपक- (सं. वि.) भूख को बढ़ानेवाली (ओषधि); -देवता- (सं. पु.) अग्नि जो देवता माने जाते हैं; -देवा- (सं. स्त्री.) कृत्तिका नक्षत्र; -घान- (सं. पु.) अग्निहोत्र का घर; -नक्षत्र- (सं. पु.) कृत्तिका नक्षत्र; -नयन- (सं. पु.) देवता, अग्नि के नेत्र; -नेत्र- (सं. पु.) देवता, लाल आँख; -परिक्रिया- (सं. स्त्री.) हवन इत्यादि से अग्नि की पूजा; -परीक्षा- (सं. स्त्री.) सोना-चाँदी को आग में डालकर और तपाकर इनकी विशुद्धता की परीक्षा करना, जलती हुई अग्नि पर स्त्रियों को चलाकर इनके दोपादोप की जांच करने की विधि; -पुराण- (सं. पु.) अठारह पुराणों में से आठवाँ

पुराण जिसको अग्नि ने वसिष्ठ को सुनाया था। इसमें मन्त्र, यन्त्र तथा ओषधियों का वर्णन है, नाना प्रकार के विविध देवताओं की पूजनविधि तथा साहित्यविद्या, छन्दःशास्त्र, योगशास्त्र और ब्रह्मज्ञान विषयों का भी वर्णन है; -प्रतिष्ठा- (सं. स्त्री.) शुभकार्य में अग्नि-स्थापन; -प्रस्तर- (सं. पु.) चकमक पत्थर, आग उत्पन्न करनेवाला पत्थर; -वाण- (सं. पु.) एक प्रकार का वाण जिसके चलाने से आग निकलती थी; -वाहु- (सं. पु.) एक राजपुत्र का नाम, घूम्र, घुवाँ; -भ- (सं. पु.) सुवर्ण, सोना, लाल पदार्थ, कृत्तिका नक्षत्र; -भू- (सं. पु.) कार्तिकेय, सुवर्ण, जल; -मंथन- (सं. पु.) अरणी द्वारा संघर्ष से अग्नि उत्पन्न करना; -मणि- (सं. पु.) सूर्यकान्त मणि, चकमक पत्थर; -मांछ- (सं. पु.) अजीर्ण, भूख का न लगना, मन्दाग्नि, पाचन-शक्ति में न्यूनता; -मारुति- (सं. पु.) अगस्त्य मुनि; -मित्र- (सं. पु.) शुद्ध वंश के द्वितीय राजा जो मगध देश में राज्य करते थे; -मुख- (सं. पु.) देवता, ब्राह्मण, क्षिता, मिलाना नामक ओषधि; -मुखी- (सं. स्त्री.) मिलाने का वृक्ष गायत्रीमन्त्र; -युग- (सं. पु.) ज्योतिष के अनुसार पाँच वर्ष का काल; -रक्षण- (सं. पु.) अग्नि-होत्र, अग्नि-रक्षा करने का मन्त्र; -रूप- (सं. वि.) अग्नि के समान वर्ण का परितप्त; -रेतस्- (सं. पु.) सुवर्ण, सोना; -लोक- (सं. पु.) सुमेरु पर्वत के नीचे का प्रदेश; -वक्र- (सं. पु.) मिलावे का वृक्ष; -वत्- (सं. वि.) अग्नि तुल्य; -वधू- (सं. स्त्री.) दक्ष की कन्या; -वर्धक- (सं. वि.) भूख बढ़ानेवाली ओषधि; -वल्लभ- (सं. पु.) साल का वृक्ष, साखू का पेड़; -वाहु- (सं. पु.) आग जलानेवाला पदार्थ, वकरा, घुवाँ; -वाहन- (सं. पु.) अग्नि का रथ, वकरा; विदु- (सं. वि.) स्फुल्लिग, चिनगारी; -विकार- (सं. पु.) भूख न लगने का रोग, क्षुधा न लगना; -विद्या- (सं. स्त्री.) अग्निहोत्र; -वीज, -वीर्य- (सं. पु.) सुवर्ण, सोना; -वृद्धि- (सं. स्त्री.) क्षुधा में वृद्धि, भूख अधिक लगना; -वेश- (सं. पु.) महर्षि आत्रेय के शिष्य जो प्राचीन समय में पांचाल

देश में राज्य करते थे; -व्रत- (सं. पु.) अग्नि संस्कार; -शर्मा- (सं. पु.) एक ऋषि का नाम जो बड़े क्रोधी थे; -शाला- (सं. पु.) अग्नि रखने का स्थान; -शिखा- (सं. स्त्री.) अग्नि की ज्वाला, कुसुम वृक्ष, कुंकुम, सुवर्ण, सोना; -शुद्धि- (सं. स्त्री.) अग्नि द्वारा शुद्ध करने की विधि, अग्नि-परीक्षा; -शेखर- (सं. पु.) कुंकुम का वृक्ष, केसर का पौधा, केशर; -श्री- (सं. स्त्री.) अग्नि की प्रभा; -ष्टोम- (सं. पु.) स्वर्ग-प्राप्ति के लिये किया जानेवाला एक यज्ञ जिसमें सोमरस की आहुति देकर सोमरस पिया जाता है। इस यज्ञ में सोलह ऋत्विक् रहते हैं तथा इस यज्ञ को करने का अधिकार केवल ब्राह्मण अग्निहोत्री को होता है; -ष्टोमयाजी- (सं. पु.) जिस ब्राह्मण ने अग्निष्टोम यज्ञ को किया हो; -संस्कार- (सं. पु.) वाहक्रिया, शवदाह; -संवी-पन- (सं. पु.) जठरानल को तीव्र करने की ओषधि; -संभव- (सं. पु.) अग्नि से उत्पन्न होनेवाला पदार्थ, जंगली केशर, सुवर्ण; -सखा- (सं. पु.) अग्नि-देव का मित्र, वायु; -सहाय- (सं. पु.) वायु, घुवाँ; -साक्षिक- (सं. वि.) अग्नि को साक्षी देनेवाला; -सात्- (सं. वि.) अग्नि द्वारा भस्म किया हुआ; -साध्य- (सं. वि.) जो अग्नि से जलाया जा सके, अग्निदाह; -सार- (सं. पु.) रसांजन; -सारा- (सं. स्त्री.) फलशून्य शाखा; (सं. पु.) स्फुल्लिङ्ग, चिनगारी; -स्तोक- (सं. पु.) अग्निष्टोम; -स्तोम- (सं. पु.) मंजरी; -हानि- (सं. पु.) अग्निमान्द्य; -होत्र- (सं. पु.) प्रतिदिन प्रातःकाल तथा संध्या को मंत्र द्वारा स्थापित अग्नि में हवन करने का यज्ञ। इसमें अग्नि अहोरात्र जलती हुई रक्की जाती है; -होत्री- (सं. पु.) अग्निहोत्र करनेवाला ब्राह्मण। अग्नि- (सं. पु.) वीरवहूटी, इंद्रगोप, एक पौधा, एक तरह का साँप। अग्नीध्र- (सं. पु.) यज्ञाग्नि जलानेवाला ब्राह्मण, ऋत्विक्, ब्रह्मा, यज्ञ, स्वायंभुव मनु का एक पुत्र। अग्नीय- (सं. वि.) अग्नि-संबंधी, अग्नि का। अग्नीष्टक- (सं. पु.) मसालों से बनाई हुई ईंट जो अहोरात्र आग में रहने पर भी नष्ट नहीं होती। अग्न्यगार- (सं. पु.) यज्ञाग्नि रखने का स्थान।

अग्न्यस्त्र—(सं. पुं.) अग्निबाण, तोप, बन्दूक, बमगोला, तमंचा इत्यादि जो बारूद से चलाये जाते हैं ।
 अग्न्यागार—(सं. पुं.) अग्न्यागार ।
 अग्न्यात्मक—(सं. वि.) अति कठोर हृदय-वाला, अति क्रूर ।
 अग्न्याधान—(सं. पुं.) अग्निहोत्र याग ।
 अग्न्याघय—(सं. पुं.) अग्निहोत्री ।
 अग्न्यालय—(सं. पुं.) अग्निहोत्र का घर ।
 अग्न्याशय—(सं. पुं.) पेट की जठराग्नि का स्थान ।
 अग्न्युत्पात—(सं. पुं.) आग लगना, आकाश से अग्नि की वर्षा, उल्कापात, घूमकेतु ।
 अग्न्युद्धार—(सं. पुं.) अरणि द्वारा यज्ञ करने के लिए आग निकालना ।
 अग्यारी—(हिं. स्त्री.) घूप देने का पात्र, घूपदानी ।
 अग्र—(सं. पुं.) ऊपरी भाग, शिखर, चोटी, नोक, आगे का भाग, अवलम्बन, समूह; (वि.) उत्तम, श्रेष्ठ, बड़ा, प्रधान, प्रथम, अगला; -कर—(सं. पुं.) दाहिना हाथ; -काय—(सं. पुं.) शरीर का अगला भाग; -गण्य—(सं. वि.) जिसकी गणना पहिले की जावे, प्रथम, अगुआ, नेता, श्रेष्ठ; -गामी—(सं. वि.) आगे जानेवाला, पुरोगामी, प्रधान नेता; -ज—(सं. पुं.) बड़ा (जेठा) पुत्र या भाई, जिसका जन्म पहले हुआ हो, नेता, विष्णु, ब्राह्मण; -जघा—(सं. स्त्री.) जाँघ का अगला भाग; -जन्मा—(सं. पुं.) ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा भाई, ब्रह्मा, ब्राह्मण; -जात—(सं. पुं.) जिसका जन्म पहले हुआ हो, जेठा पुत्र, बड़ा भाई, ब्राह्मण; -जाति—(सं. स्त्री.) मुख्य जाति, ब्राह्मण; -जिह्वा—(सं. स्त्री.) जीम का अगला भाग; -णी—(सं. पुं.) अगुवा, नेता, श्रेष्ठ, स्वामी, मालिक; -तः—(सं. अव्य.) आगे, पहिले; -दानी—(सं. पुं.) निकृष्ट दान लेनेवाला ब्राह्मण, महाब्राह्मण, महापात्र; -दानीय—(सं. पुं.) प्रेत कर्म का दान लेनेवाला महाब्राह्मण; -दोष—(सं. पुं.) जो टापू सब से पहिले जल के बाहर निकल आया हो; -धान्य—(सं. पुं.) वह अन्न जो पहिले उत्पन्न हो, वाजरा; -नख—(सं. पुं.) नख का अगला भाग; -नासिका—(सं. स्त्री.) नाक का अगला भाग; -निरूपण—(सं. पुं.) पूर्वज्ञान, भविष्यवाणी; -पर्णी—(सं. स्त्री.) सतावर (औषधि);

-पद्चात—(सं. पुं.) आगा-पीछा;
 -पाणि—(सं. पुं.) हाथ का अगला भाग, दाहिना हाथ; -पुष्प—(सं. पुं.) जो फूल पहिले फूला हो, बँत का वृक्ष; -पूजा—(सं. स्त्री.) पहिली पूजा; -पेय—(सं. पुं.) जो पहिले पिया जावे; -भाग—(सं. पुं.) शिखाग्र, चोटी, आगे का भाग, किनारा, छोर; -भुक्—(सं. पुं.) बिना देवता या पितर को अर्पण किये स्वयं भोजन कर लेना; (वि.) मुखड़, पेट; -भू—(सं. पुं.) जेठा भाई, ब्राह्मण; -भूमि—(सं. स्त्री.) आगे की भूमि; -महिषी—(सं. स्त्री.) अभिषेक की हुई प्रधान रानी; -मांस—(सं. पुं.) फुफुस, फेफड़ा; -मुख—(सं. पुं.) मुख का अगला भाग; -यण—(सं. पुं.) अगहन महीना; -याण, -यान—(सं. पुं.) आगे जानेवाली सेना; अग्र-यायी—(सं. वि.) आगे जानेवाला, अग्रगामी; -योधा—(सं. पुं.) सेना के आगे लड़नेवाला योद्धा; -लोहिता—(सं. स्त्री.) लाल शिखावाला पौधा, चिलारी का साग; -वर्ती—(सं. पुं.) आगे रहनेवाला, नेता, अगुवा; -वाल—(हिं. पुं.) अगरवाला, वैश्य वंश की एक शाखा; -बीज—(सं. पुं.) जो वृक्ष डाल लगाने से उत्पन्न हो; -वीर—(सं. पुं.) सेना का प्रधान योद्धा; -त्रीहि—(सं. स्त्री.) कृषिफल का अन्न; -शोची—(सं. पुं.) आगे से विचार कर लेनेवाला, दूरदर्शी; -संध्या—(सं. स्त्री.) सन्ध्या का अग्रभाग, तड़का; -सर—(सं. वि.) आगे चलनेवाला, अग्रगामी, नेता, अगुआ; -सारण—(सं. पुं.) आगे बढ़ना, निवेदनपत्र आदि को बड़े अधिकारी के पास भेजना; -सारा—(सं. स्त्री.) बिना फूल का डंठल, पौधे की मंजरी; -सारित—(सं. वि.) बड़े अधिकारी के पास प्रेषित; -हार—(सं. पुं.) खेत की उपज का वह अन्न जो देवता या ब्राह्मण को अर्पण करने के लिये अलग कर दिया जाय ।
 अग्रह—(सं. पुं.) जिसने विवाह न किया हो, वानप्रस्थ, संन्यासी ।
 अग्रहायण—(सं. पुं.) हाथ का अगला भाग, हाथों की सूँड़ का अग्रभाग, अगहन महीना ।
 अग्रांश—(सं. पुं.) अग्रभाग ।
 अग्रांशु—(सं. पुं.) प्रकाश की किरण का

अन्त, केंद्रीय बिंदु ।
 अग्राक्षि—(सं. पुं.) आँख का अगला भाग ।
 अग्राणीक—(सं. पुं.) आगे जानेवाली सेना ।
 अग्राम्य—(सं. पुं.) जंगली ।
 अग्राशन—(सं. पुं.) देवता को अर्पण करने के लिए भोजन करने से पहिले रक्खा हुआ रीघा हुआ अन्न ।
 अग्रासन—(सं. पुं.) जो आसन ब्राह्मण को पहिले बैठने के लिए दिया जाय ।
 अग्राह्य—(सं. वि.) न ग्रहण करने योग्य ।
 अग्रिम—(सं. पुं.) आगे का, श्रेष्ठ, प्रधान ।
 अग्रिमा—(सं. स्त्री.) शरीफा ।
 अग्रिय, अग्रोय—(सं. पुं.) बड़ा भाई, पहिला फल ।
 अध—(सं. पुं.) अधर्म, पाप, दुःख, दुर्घटना, अपराध, व्यसन, निंदा, कंस का सेनापति जो एक असुर था ।
 अधच्छत्—(सं. वि.) पाप करनेवाला ।
 अधखानि—(हिं. स्त्री.) पाप का भंडार ।
 अधट—(हिं. वि.) अयोग्य, अनुपयुक्त, जो ठीक न हो, बे-ठीक ।
 अधटन—(सं. पुं.) न घटने की अवस्था ।
 अधटित—(हिं. वि.) न होनेवाला, असंभव ।
 अधन—(सं. वि.) जो गाढ़ न हो ।
 अधनाशक—(सं. वि.) पाप को दूर करनेवाला, पापनाशक ।
 अधन्य—(सं. पुं.) वध न करने योग्य, गाय, वृषभ, वादल, ब्रह्मा, प्रजापति ।
 अधभोजी—(सं. पुं.) अयोग्य या अग्राह्य भोजन करनेवाला ।
 अधभय—(सं. वि.) पापपूर्ण ।
 अधसर्षण—(सं. पुं.) पाप नाश करनेवाला मंत्र; (वि.) पापनाशक ।
 अधर्म—(सं. पुं.) शीतकाल जिसमें शरीर में पसीना न हो ।
 अधवाना—(हिं. क्रि. स.) भोजन से संतुष्ट करना, पेटभर खिलाना ।
 अधविष—(सं. पुं.) सर्प, साँप ।
 अधहरण—(सं. पुं.) पाप की निवृत्ति ।
 अधहार—(सं. पुं.) पवित्र पुरुष ।
 अधाई—(हिं. स्त्री.) तृप्ति, संतोष, पेटभर खाने की अवस्था ।
 अधाट—(हिं. पुं.) जहाँ पर घाट न हो ।
 अधाती—(हिं. वि.) जो धाती या धातक न हो, अघातक ।
 अधाना—(हिं. क्रि. अ.) प्रसन्न होना, इच्छा पूर्ण होना, छकना, मन भर जाना, पेट भरना, भोजन से तृप्त होना, उगताना ।
 अधायु—(सं. पुं., वि.) पाप करनेवाला, पापी, हत्यारा ।

अघारि—(सं. पुं.) पापनाशक, श्रीकृष्ण ।
 अघाव—(हिं. पुं.) तृप्ति, अधाना ।
 अघासुर—(सं. पुं.) एक असुर जो पूतना का भाई था । श्रीकृष्ण ने इसका वध किया था ।
 अघी—(हिं. वि.) कुकर्मि, पापी ।
 अघृण—(सं. वि.) दयारहित, क्रूर ।
 अघृणी—(सं. वि.) घृणा न करने योग्य, जो घृणित न हो, अच्छा ।
 अघरन—(हिं. पुं.) जब का मोटा आटा ।
 अघोर—(सं. वि.) जो भयानक न हो, प्रिय, सोहावना, सौम्य; (पुं.) महादेव, शिव, एक संप्रदाय जिसके अनुयायी मल, मूत्र, मांस भी खाने से घृणा नहीं करते; -नाथ—(सं. पुं.) शिव, महादेव, शंकर; -पंथ—(हिं. पुं.) अघोरियों का संप्रदाय, अवघड़ों का मत, -पंथी—(हिं. पुं.) अघोर मत को माननेवाला, अघोरी ।
 अघोरी—(सं. पुं.) अघोर मतावलंबी ।
 अघोष—(सं. पुं.) संस्कृत व्याकरण के अनुसार उच्चारण करने के लिये एक विशेष प्रयत्न ।
 अचंचल—(सं. वि.) जो चंचल न हो, धीर ।
 अचंभव (भो, भौ)—(हिं. पुं.) अचंभा ।
 अचंभा—(हिं. पुं.) आश्चर्य, विस्मय ।
 अचंभित—(हिं. वि.) चकित, विस्मित ।
 अचक—(हिं. वि.) पूर्ण, पूरा, अधिक; (पुं.) आश्चर्य, विस्मय; (अव्य.) एकाएक, अचानक, अकस्मात् ।
 अचकन—(हिं. पुं.) लंबा कुरता या अंगरखा, लंबी बर्दी ।
 अचकाँ—(हिं. अव्य.) अकस्मात्, विना समझे-बूझे, एकाएक ।
 अचकित—(सं. वि.) भयहीन, अतृप्त, स्थिर, इधर-उधर न देखनेवाला ।
 अचक्का—(हिं. पुं.) अपरिचित व्यक्ति, अज्ञान; (मुहा.) अचक्के में—अचानक, धोखे में, अनजान में ।
 अचक्षु—(सं. वि.) विना आँख का, अन्धा ।
 अचगरी—(हिं. स्त्री.) उपद्रव, छिछोरापन ।
 अचतुर—(सं. वि.) जो चतुर न हो ।
 अचना—(हिं. क्रि. स.) आचमन करना, मुँह धोना, कुल्ला करना ।
 अचपल—(सं. वि.) जो चंचल न हो, अचंचल, स्थिर, धीर ।
 अचपलता—(सं. स्त्री.) धैर्य, स्थिरता ।
 अचपली—(हिं. स्त्री.) क्रीड़ा, खेल-कूद ।
 अचमन—(हिं. पुं.) आचमन, मुँह धोना ।
 अचंर—(हिं. वि.) न चलनेवाला, ठहरा

हुआ, स्थिर, अटल, स्थावर ।
 अचरज—(सं. पुं.) अचंभा, आश्चर्य, विस्मय ।
 अचरम—(सं. वि.) जो अन्त का न हो, बीच का ।
 अचरित—(सं. वि.) नवीन, अप्रचलित ।
 अचल—(सं. वि.) जो चलायमान न हो, निश्चल, स्थिर, दृढ़, अटल; (पुं.) वृक्ष, पर्वत; -कन्या—(स्त्री.) पार्वती; -कीला—(स्त्री.) पृथ्वी; -जा—(स्त्री.) पार्वती, पर्वत पर उत्पन्न होनेवाली लता; -षूष—(पुं.) इन्द्र; -नारी—(स्त्री.) हिमालय की पत्नी; -पति—(सं. पुं.) हिमालय पर्वत; -राज—(पुं.) हिमालय ।
 अचला—(सं. स्त्री.) न चलनेवाली, स्थिर, हिमालय की पत्नी, पृथ्वी; -सप्तमी—(सं. स्त्री.) माघ सुदी सप्तमी, इस तिथि का किया हुआ दान-पुण्य अचल समझा जाता है ।
 अचवन—(हिं. पुं.) आचमन, भोजन के बाद हाथ-मुँह धोना तथा कुल्ला करना, पीने का कार्य ।
 अचवना—(हिं. क्रि. स.) आचमन करना, कुल्ला करना ।
 अचवाई—(हिं. स्त्री.) आचमन ।
 अचवाना—(हिं. क्रि. स.) भोजन के बाद हाथ-मुँह धुलवाना, कुल्ला कराना ।
 अचानक—(हिं. अव्य.) अकस्मात्, एकाएक, दैवयोग से ।
 अचार—(हिं. पुं.) फल या तरकारियों में मसाला मिलाकर बना हुआ खाने का खट्टा पदार्थ, आचरण, व्यवहार ।
 अचारी—(हिं. वि.) आचार करनेवाला; (स्त्री.) एक प्रकार का आम का अचार ।
 अचालू—(हिं. पुं.) न चलनेवाला, कम चलनेवाला ।
 अचाह—(हिं. स्त्री.) इच्छा या प्रेम का अभाव; (वि.) किसी पदार्थ की इच्छा न रखनेवाला, निस्पृह ।
 अचाहा—(हिं. वि.) चाह या इच्छा न करनेवाला, निस्पृह ।
 अचाही—(हिं. वि.) इच्छारहित, किसी पदार्थ की आकांक्षा न करनेवाला, निष्काम ।
 अचित—(हिं. वि.) विना किसी प्रकार की चिंता का, निश्चिन्त ।
 अचितनीय—(सं. वि.) जिसका चिन्तन न हो सके, चिंता से अगम्य, अज्ञेय ।
 अचितित—(सं. वि.) विना चिंता किया हुआ, अतकित ।
 अचित्य—(सं. वि.) विचार के बाहर, कल्पनातीत, आकस्मिक अज्ञेय; (पुं.)

एक अलंकार विशेष ।
 अचित्यात्मा—(सं. पुं.) परमेश्वर ।
 अचिककण—(सं. वि.) रूखा, जो चिकना न हो, मैला ।
 अचिकित्स्य—(सं. वि.) जिसकी चिकित्सा न हो सके, असाध्य (रोग) ।
 अचित्—(सं. पुं.) निर्जीव पदार्थ ।
 अचित्त—(सं. वि.) चेतनाहीन, वेसुध, ज्ञानशून्य, अज्ञान ।
 अचिर—(सं. वि.) थोड़े काल तक ठहरनेवाला; (अव्य.) शीघ्र, तुरत, जल्दी से ।
 अचिरद्युति, अचिरप्रभा—(सं. स्त्री.) विजली, विद्युत् ।
 अचिरांशु—(सं. स्त्री.) थोड़ी देर रहनेवाली चमक, विद्युत्, विजली ।
 अचिरात्—(सं. अव्य.) विना विलंब के, झटपट, तुरंत ।
 अचिराभा—(सं. स्त्री.) विद्युत्, विजली ।
 अचिष्णु—(सं. वि.) गमनशील, जानेवाला ।
 अचीता—(हिं. वि.) विना समझा-बूझा, आकस्मिक ।
 अचूक—(हिं. वि.) न चूकनेवाला, निश्चित, अवश्य; (अव्य.) विना भूल या चूक के ।
 अचेत—(सं. वि.) चेतनाशून्य, मूर्छित, निर्वृद्धि, मूर्ख, विकल, जड़; (पुं.) निर्जीव पदार्थ ।
 अचेतन—(सं. वि.) ज्ञानशून्य, चेतनारहित ।
 अचेष्ट—(सं. वि.) ज्ञानशून्य, निश्चेष्ट ।
 अचेष्टता—(सं. स्त्री.) ज्ञान या चेष्टा-शून्यता, निश्चेष्टता ।
 अचेतन्य—(सं. वि.) चेतनाहीन, जड़ ।
 अचन—(हिं. पुं.) व्याकुलता, बेचैनी, दुःख ।
 अचना—(हिं. पुं.) मूँ में गड़ा हुआ चारा काटने का ठीहा, नैसुआ ।
 अचोट—(हिं. वि.) विना चोट लगा-हुआ, सुरक्षित ।
 अचौना—(हिं. पुं.) आचमनी, पानी पीने का छोटा पात्र ।
 अच्छ—(सं. वि.) स्वच्छ, निर्मल; (पुं.) मालू, स्फटिक ।
 अच्छत—(हिं. पुं.) देखें 'अक्षत' ।
 अच्छभल्ल—(सं. पुं.) मालू, रीछ ।
 अच्छा—(हिं. वि.) बढ़िया, उत्तम, मला, रोगरहित, स्वस्थ; (पुं.) श्रेष्ठ मनुष्य, बड़ा तथा बूढ़ा मनुष्य; (अव्य.) भली भाँति; स्वोकारसूचक शब्द, अस्तु; (मुहा.) -आना—ठीक वक्त पर आना; अच्छे से पाला पड़ना—बड़े अक्खड़ आदमी से पाला पड़ना; अच्छी कटना या बीतना—आराम से दिन

वीतना; अच्छे-अच्छे-बड़े आदमी।
 अच्छाई (हिं. स्त्री), अच्छापन-(हिं. पुं.)
 भलाई, उत्तमता, सुघड़पन।
 अच्छा-खासा-(हिं. वि.) काफी अच्छा।
 अच्छा-बुरा-(हिं. वि.) भला-बुरा।
 अच्छिद्र-(सं. वि.) विना छिद्र का, दौष-
 हीन, विना भ्रान्ति का।
 अच्छिन्न-(सं. वि.) जो टूटा-फूटा न हो,
 अखंडित, समूचा, पूरा, समग्र।
 अच्छेख-(सं.वि.) जिसका छेदन न हो
 सके, अविभाज्य।
 अच्छोटन-(सं. पुं.) आखेट, शिकार।
 अच्छोद-(सं. पुं.) कैलास पर्वत पर के
 एक सरोवर का नाम।
 अच्छुत-(सं. वि., पुं.) जिसका कभी क्षय
 न हो, सनातन, स्थायी, अभ्रष्ट, अमर,
 विष्णु, ब्रह्म, ईश्वर, जैनियों के एक देवता।
 अच्छुताग्रज-(सं. पुं.) कृष्ण के बड़े भाई
 बलराम, इंद्र।
 अच्छुतात्मज-(सं. पुं.) कृष्ण के पुत्र,
 कामदेव।
 अच्छुतानंद-(सं.पुं.) नित्यानंद, परमेश्वर।
 अच्छक-(हिं. वि.) न छका हुआ, भूखा।
 अच्छकना-(हिं. क्रि. अ.) सूखे रहना, पेट-
 भर न खाना।
 अच्छताना-पछताना-(हिं. क्रि. अ.) पश्चा-
 ताप करना, खेद करना।
 अच्छत्र-(हिं. पुं.) राज्यहीन, विना छत्र
 का, असहाय।
 अच्छरा-(हिं. स्त्री.) अप्सरा, देवांगना।
 अच्छरौटी-(हिं. स्त्री.) वर्णमाला।
 अच्छल-(हिं.वि.) विना कपट का, निष्कपट,
 निश्छल।
 अच्छवाना-(हिं. क्रि. स.) सजाना, सुशो-
 भित करना, सँवारना।
 अच्छवानी-(सं. स्त्री.) प्रसूता स्त्रियों को
 दिया जानेवाला एक पाक विशेष।
 अच्छाम-(हिं. वि.) हृष्ट-पुष्ट, बलवान्।
 अच्छत-(हिं. वि.) स्पर्श न किया हुआ,
 कोरा, नया, अस्पृश्य; (पुं.) अंत्यज
 जाति-डोम, चमार आदि।
 अच्छता-(हिं. वि.) विना छुआ हुआ,
 नया, पवित्र।
 अच्छेव-(हिं. वि.) विना छिद्र का।
 अच्छेह-(हिं. वि.) अखंडित, बहुत।
 अज-(सं.वि.पुं.)जिसका जन्म न हो, ईश्वर,
 ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, कामदेव,
 सूर्यवंशीय राजा रघु के पुत्र, बकरा,
 मेढा, अजन्मा, नेता, सुवर्णमाक्षिक नाम
 की धातु-विशेष, प्रकृति, शक्ति, काक-

डासिधी नामक औषधि।
 अजकर्ण, अजकर्णक-(सं. पुं.) बकरे का
 कान, साल का वृक्ष।
 अजकव-(सं. पुं.) शिवजी के धनुष का नाम,
 बबूल का वृक्ष, विषघर बड़ा विच्छ।
 अजका-(सं. स्त्री.)बकरे के गले का स्तन।
 अजकाव-(सं.पुं.) यज्ञपात्र, शिव का धनुष।
 अजगंधा-(सं. स्त्री.)अजवाइन, अजमोद।
 अजग-(सं. पुं.) अग्नि, विष्णु।
 अजगर-(सं. पुं.) बकरे को निगल जाने-
 वाला स्थूलकाय सर्प; (वि.) आलसी,
 उद्यमहीन।
 अजगरी-(हिं. वि.) अजगर सम्बन्धी,
 अजगर का।
 अजग्व-(सं. पुं.) महादेव का धनुष,
 पिनाक, देखें 'अजकव'।
 अजघन्य-(सं. वि.) श्रेष्ठ, भला।
 अजटा-(सं. वि.) विना जटा का;
 (पुं.) एक प्रकार का वृक्ष।
 अजड़-(सं. वि.) सजीव, चेतन।
 अजदंडी-(सं. स्त्री.) ब्रह्मदंडी का वृक्ष।
 अजदहा-(फा. पुं.) बड़े-बड़े पशुओं को
 निगल जानेवाला अजगर।
 अजदेवता-(सं. पुं.) बकरे का अधिष्ठाता
 देवता।
 अजन-(सं. वि.) जिसका जन्म न होता
 हो; (पुं.) निर्जन स्थान, एकान्त।
 अजन्म, अजन्मा-(सं. वि.) जिसका जन्म
 न हो, अनादि।
 अजप-(सं.पुं.)बकरी पालनेवाला मनुष्य।
 अजपति-(सं. पुं.) श्रेष्ठ बकरा, मेप राशि
 का स्वामी, मंगल ग्रह।
 अजपथ-(सं. पुं.) ईश्वर का बनाया हुआ
 मार्ग, छायापथ।
 अजपा-(सं. स्त्री.) वह मंत्र जो बिना यत्न
 के जपा जा सके अथवा उच्चारण किया
 जा सके, (स्वामाविक स्वासोच्छ्वास
 को अजपा जप अथवा हंस मन्त्र कहते
 हैं), (हं=श्वास खींचना, स=श्वास
 छोड़ना); बकरी पालनेवाला।
 अजपाद-(सं. पुं.) एक रुद्र विशेष, पूर्वा
 माद्रपद नक्षत्र।
 अजबंधु-(सं. पुं.) मूर्ख, बुद्धिहीन पुरुष।
 अजव-(अ. वि.) अद्भुत, विचित्र;
 (पुं.) अचंभा, अचरज।
 अजबला-(सं. स्त्री.) श्यामा तुलसी।
 अजमुख-(सं. पुं.) दक्ष प्रजापति।
 अजमोद, अजमोदा-(सं. स्त्री.) अजवाइन।
 अजय-(सं.पुं.) जय का अभाव, पराजय,
 हार।

अजयपाल-(सं. पुं.) एक राग विशेष,
 जमालगोटा; (वि.) अजेय।
 अजया-(सं. स्त्री.) माँग, विजया।
 अजय्य-(हिं. वि.) जो जीता न जा सके,
 अपराजित।
 अजर-(सं. वि.) जो कभी वृद्ध न हो,
 वार्धक्य-शून्य, चिर-युवा, अमर।
 अजरा-(सं.स्त्री.) घृतकुमारी, धिकुआर।
 अजरायल-(हिं. वि.) कभी जीर्ण न होने-
 वाला, चिरस्थायी।
 अजलोमा-(सं. पुं.) केवाँच, दानरी;
 (वि.) बकरे के समान रोयेंवाला।
 अजवल्ली-(सं. स्त्री.) एक औषधि
 विशेष, मेढासिधी।
 अजवाइन, अजवायन-(हिं. स्त्री.)
 अजमोद, एक मसाला विशेष।
 अजवीधी-(सं. स्त्री.) हाथी का मार्ग।
 अजशृंगी-(सं. स्त्री.) अजवल्ली,
 मेढासिधी नामक औषधि।
 अजस-(हिं.पुं.)अयश,अपयश,अपकीर्ति।
 अजसी-(हिं. वि.) जिसके हाथ में यश
 न हो, यशहीन।
 अजस्र-(सं. वि.) चिरस्थायी, सतत;
 (अव्य.) नित्य, निरंतर, सर्वदा।
 अजहत्स्वार्था-(सं. स्त्री.) उपादान-
 लक्षणा जिसमें कोई शब्द अपने अर्थ को
 दूसरे शब्द के अर्थ में प्रकट करता है।
 अजहू-(हिं. अव्य.)अव भी, आजतक भी।
 अजा-(सं. स्त्री.) बकरी, प्रकृति, माया।
 अजागर-(सं. पुं.) भूंगराज, भूंगरैया;
 (वि.) न जागनेवाला।
 अजाचक-(हिं. पुं.) अयाचक या सम्पन्न
 मनुष्य; (वि.) न माँगनेवाला, जिसको
 कुछ माँगने की आवश्यकता न हो।
 अजाची-(हिं. पुं, वि.) जो किसी से कुछ
 न माँगे, सम्पन्न व्यक्ति, भाग्यवान् पुरुष।
 अजाजि-(सं. स्त्री.) गूलर का वृक्ष,
 जीरक, जीरा।
 अजाजिक-(सं. पुं.) सफेद जीरा।
 अजात-(सं.वि.)जिसका जन्म न हुआ हो।
 अजातककुद-(सं.पुं,वि.) बछड़ा, जिसको
 ककुद न निकला हो।
 अजातदंत-(सं. वि.) जिसको दाँत न
 निकले हों; (पुं.) विना दाँत का बालक।
 अजातपक्ष-(सं. वि.) पक्षी का छोटा
 बच्चा जिसके पर न निकले हों और
 जो उड़ न सके।
 अजातव्यवहार-(सं.वि.,पुं.)अप्राप्तवयस्क।
 अजातशत्रु-(सं. पुं.) काशी के एक
 बति प्राचीन राजा का नाम, राजा

युधिष्ठिर, मगध देश के राजा विविस्वार के पुत्र का नाम ।
 अजातारि—(सं. पुं.) जिसका कोई शत्रु न हो, युधिष्ठिर ।
 अजाति, अजाती—(सं. वि.) जाति-शून्य, विजाति, विना जाति का, जाति से निकाला हुआ, पतित, त्याज्य ।
 अजादनी—(सं. स्त्री.) वेर का वृक्ष ।
 अजान—(हिं. वि.) जो जाना हुआ न हो, अज्ञात, अपरिचित; (पुं.) अज्ञान, अविवेक, अनजान ।
 अजानि—(सं. पुं.) विना पत्नी का पुरुष ।
 अजामिल—(सं. पुं.) पुराणों में एक पापी ब्राह्मण का नाम जो मरते समय अपने पुत्र नारायण का नाम लेने से मुक्त हुआ था ।
 अजाय—(हिं. वि.) अनुचित, अयोग्य ।
 अजार—(हिं. पुं.) रोग, व्याधि ।
 अजिओरा—(हिं. पुं.) आजी या दादी के पिता का घर ।
 अजित—(सं. वि.) जो हारा न हो, अपराजित; (पुं.) शिव, विष्णु, बुद्ध, जैनियों के दूसरे तीर्थंकर का नाम ।
 अजिता—(सं. स्त्री.) भादों वदी एकादशी ।
 अजितेंद्रिय—(सं. वि.) जिसने अपनी इन्द्रियों को वश में न किया हो, विषयासक्त ।
 अजिन—(सं. पुं.) मृग-चर्म, मृगछाला ।
 अजिनपत्रा—(सं. स्त्री.) चमड़े के समान परवाला चमगादड़ ।
 अजिनवासी—(सं. वि.) मृग-चर्म पहिनेवाला; मृगचर्मधारी ।
 अजिर—(सं. पुं.) टीला, आंगन, चबूतरा, वायु, शरीर, मेढक, विषय; (वि.) शीघ्र चलनेवाला ।
 अजिह्वा—(सं. वि.) जो टेढ़ा न हो, सरल, सीधा, ईमानदार ।
 अजिह्वग—(सं. वि., पुं.) सीधा जानेवाला, वाण, पक्षी ।
 अजिह्वाग्र—(सं. वि.) सीधी नोकवाला ।
 अजिह्व—(सं. पुं.) मेढक; (वि.) विना जीभ का ।
 अजी—(हिं. अव्य.) संबोधनार्थक शब्द, अरे !
 अजीगर्त—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम जो शुनःशेफ के पिता थे, सर्प, साँप ।
 अजीरन—(हिं. पुं.) अपच, बहुतायत; (मुहा.)—होना-भारी या दूभर होना ।
 अजीर्ण—(सं. पुं.) अपाक, अपच, अन्न का अच्छी तरह से न पचना, बहुतायत; (वि.) जो पचा न हो ।

अजीर्णी—(सं. वि.) जिसको अपच हुआ हो ।
 अजीव—(सं. वि.) चेतनाशून्य, मृतक, विना जीव का, अचेतन, निर्जीव ।
 अजीवक—(सं. पुं.) शिवजी का धनुष ।
 अजीवन—(सं. पुं.) जीवन या अस्तित्व का अभाव, मृत्यु, मौत; (वि.) जीवनरहित ।
 अजुगुप्सित—(सं. वि.) निन्दा न किया हुआ, अनिन्दित ।
 अजूजा—(हिं. पुं.) मृतक शरीर को खानेवाला जानवर ।
 अजूरा—(हिं. वि.) संग्रह न किया हुआ, अप्राप्त, अनुपस्थित ।
 अजेय—(सं. वि.) न जीतने योग्य ।
 अजैव—(सं. वि.) जिसमें जीव न हो ।
 अजो—(हिं. अव्य.) आज तक, अभी तक ।
 अजोग—(हिं. वि.) अयोग्य; (पुं.) बुरा योग या मुहूर्त ।
 अजौं—(हिं. अव्य.) अभी तक, आज भी ।
 अज्जल—(सं. पुं.) ढाल, अंगारा ।
 अज्ञ—(सं. वि.) ज्ञानशून्य, मूर्ख, अज्ञानी; (पुं.) मूर्ख, मनुष्य ।
 अज्ञका—(सं. स्त्री.) भोली-भाली स्त्री ।
 अज्ञता (सं. स्त्री.), अज्ञत्व—(सं. पुं.) मूर्खता, अज्ञान ।
 अज्ञात—(सं. वि.) न जाना हुआ, अपरिचित, अविदित ।
 अज्ञातक—(सं. वि.) अनजाना, अपरिचित ।
 अज्ञातनामा—(सं. वि.) जिसका नाम ज्ञात न हो, अप्रख्यात ।
 अज्ञातभुक्त—(सं. वि.) अनजानी वस्तु को खानेवाला ।
 अज्ञातयौवना—(सं. स्त्री.) मुग्धा नायिका जिसे अपनी चढ़ती जवानी का ज्ञान न हो ।
 अज्ञातवास—(सं. वि.) जिसके रहने का स्थान ज्ञात न हो, गुप्त रूप से रहनेवाला; (पुं.) गुप्त-वास ।
 अज्ञातशील—(सं. वि.) जिसकी चाल-ढाल ज्ञात न हो ।
 अज्ञाति—(सं. पुं.) असंबन्धी पुरुष ।
 अज्ञान—(सं. वि.) विना ज्ञान का, ज्ञान-शून्य; (पुं.) अविद्या, विरुद्ध ज्ञान, मोह, जड़ता, मूर्खता ।
 अज्ञानकृत—(सं. वि.) अनजान या अज्ञान में किया हुआ ।
 अज्ञानता—(सं. स्त्री.) अविद्या, मूर्खता ।
 अज्ञानी—(सं. वि.) अवोध, मूर्ख, ज्ञान-शून्य, जड़ ।
 अज्ञेय—(सं. वि.) जो जाना न जा सके,

ज्ञान के अयोग्य, समझ में न आने योग्य ।
 अज्येष्ठ—(सं. वि.) जो ज्येष्ठ या बड़ा न हो ।
 अझर—(हिं. वि.) न झरने या बरसनेवाला ।
 अझोरी—(हिं. स्त्री.) थैली ।
 अटंबर—(हिं. पुं.) राशि, ढेर ।
 अटक, अटकन—(हिं. स्त्री.) प्रतिबंध, रुकावट, अवरोध, आवश्यकता, बाधा, विघ्न ।
 अटकन-बटकन—(हिं. पुं.) लड़कों का एक खेल; (मुहा.)—खेलना—बेकार का काम करना ।
 अटकना—(हिं. क्रि. अ.) बोलते-बोलते रुक जाना, ठहरना, फँसना, उलझना, विवाद करना, झगड़ा करना, लगे रहना, प्रेम करना, बकझक करना ।
 अटकर—(हिं. स्त्री.) अटकल या अनुमान ।
 अटकरना—(हिं. क्रि. स.) अनुमान करना, कूतना ।
 अटकल—(हिं. स्त्री.) कूत, अंदाजा, अनुमान ।
 अटकलना—(हिं. क्रि. स.) अटकल या अंदाजा लगाना ।
 अटकलपच्चू—(हिं. वि.) केवल अनुमान से विचारा हुआ ।
 अटका—(हिं. पुं.) जगन्नाथपुरी में नैवेद्य लगाया हुआ भात जो सुखाकर अन्य देशों में प्रसाद के रूप में भेजा जाता है ।
 अटकाना—(हिं. क्रि. स.) ठहराना, लगाना, गति रोकना, फँसाना, बाधा डालना, रोक रखना, उलझाना ।
 अटकाव—(हिं. पुं.) अवरोध, प्रतिबंध, रुकावट ।
 अटखट—(हिं. वि.) टूटा-फूटा, छिन्न-मिन्न ।
 अटखेली—(हिं. स्त्री.) खेल-कूद, चंचलता, क्रीड़ा, कौतुक, झूमती हुई चाल ।
 अटन—(सं. पुं.) भ्रमण, घूमना-फिरना, गमन, यात्रा, चलना-फिरना ।
 अटना—(हिं. क्रि. अ.) चलना-फिरना, घूमना, यात्रा करना, रोकना, भर जाना, पूर्ण होना, समाना, पूरा पड़ना ।
 अटनि, अटनी—(सं. स्त्री.) धनुष का वह भाग जहाँ रोदा चढ़ाया जाता है ।
 अटपट, अटपटा—(हिं. वि.) टेढ़ामेढ़ा, विकट, मयंकर, अद्भुत, गहरा, दुस्तर, गूढ़, उलटा-सीधा ।
 अटपटाना—(हिं. क्रि. अ.) इधर-उधर होना, सकुचाना ।
 अटपटी—(हिं. स्त्री.) शरारत, नटखटपन ।
 अटव्वर—(हिं. पुं.) आडंबर, कुटुंब ।
 अटरूप—(सं. पुं.) अड़से का पड़ ।
 अटल—(हिं. वि.) न टलनेवाला, निश्चल, स्थिर, अवश्य होनेवाला, पोढा, दृढ़ ।

अटवि, अटवी—(सं. स्त्री.) वन, जंगल।
 अटविक—(सं. पुं.) लकड़हारा।
 अटा—(सं. स्त्री.) पर्यटन, भ्रमण, घुमीबल,
 छत, ढेर।
 अटादूट—(हि. वि.) न टूटनेवाला, दृढ़,
 गुप्त, बहुत मारी, समग्र।
 अटारी—(हि. स्त्री.) छत, घर के सबसे
 ऊपर के खंड की कोठरी।
 अटाल—(हि. पुं.) बहुत ऊँचा घर,
 बौरहरा, दुर्ग।
 अटाला—(हि. पुं.) सामग्री, सामान, ढेर,
 राशि, अचार।
 अटूट—(हि. वि.) न टूटनेवाला, जिसका
 खंड न हो सके, दृढ़, अजेय, अधिक,
 बराबर, लगातार।
 अटोक—(हि. वि.) बिना टोक का, उद्देश्य-
 रहित, बिना सहारे का।
 अटेरन—(हि. पुं.) सूत की आंटी बनाने का
 एक यंत्र, ओथना, कुस्ती का एक दाँव,
 घोंड़े को चबकर दिलाने की एक विधि।
 अटेरना—(हि. क्रि., स.) सूत की आंटी
 बनाना, मोड़ना, नश में चूर होना।
 अटोक—(हि. वि.) बिना रोकटोक का।
 अट्ट—(सं. पुं.) महल, अट्टालिका, हाट,
 बाजार; (वि.) अधिक, बहुत ऊँचा।
 अट्टक—(सं. पुं.) छत पर की कोठरी।
 अट्टन—(सं. पुं.) ढाल, अप्रतिष्ठा।
 अट्टसट्ट—(हि. वि.) ऊटपटांग, अंडबंड।
 अट्टहासित—(सं. वि.) ठहाके की हँसी-युक्त।
 अट्टहास—(सं. पुं.) ठहाके की हँसी।
 अट्टहासक—(सं. पुं.) ठहाका मारकर
 हँसनेवाला, कुन्दवृक्ष।
 अट्टहासी—(सं. पुं.) महादेव, शिव; (वि.)
 अट्टहास करनेवाला।
 अट्टा—(हि. पुं.) अट्टालिका, अटारी, मचान।
 अट्टाट्टहास—(हि. पुं.) देखें 'अट्टहास'।
 अट्टाल—(सं. पुं.) महल में सबसे ऊपर
 की छत पर का कमरा, अटारी।
 अट्टालिका—(सं. स्त्री.) अटारी, बड़ा
 मकान, राजगृह, प्रासाद।
 अट्टी—(हि. स्त्री.) लच्छी, अटेरन में
 लिपटा हुआ घागा।
 अट्टा—(हि. पुं.) तास का वह पत्ता जिसमें
 किसी रंग की आठ चटियाँ हों।
 अट्टाईस, अट्टाईस—(हि. वि., पुं.) बीस
 और आठ (से बनी हुई संख्या), २८।
 अट्टाईसवाँ—(हि. वि.) अट्टाईस
 गण्यवाला।
 अट्टानवे—(हि. वि., पुं.) नवसे और आठ
 (से बनी हुई संख्या), १८।

अट्टावन—(हि. वि., पुं.) पन्नास और आठ
 (से बनी हुई संख्या), ५८; -वाँ—(हि.
 वि.) अट्टावन संख्या का।
 अट्टासिवाँ—(हि. वि.) अट्टासी संख्या का।
 अट्टासी—(हि. वि., पुं.) अस्सी और आठ
 (से बनी हुई संख्या), ८८।
 अठ—(हि. वि.) संयुक्त पदों में आठ
 की संख्या का वाचक।
 अठइसी—(हि. स्त्री.) अट्टाईस गाँही
 फलों की संख्या।
 अठकौसल—(हि. स्त्री.) समा, पन्नाचत,
 सलाह, मंत्रणा।
 अठखलपन—(हि. पुं.) खेल-कूद, उपद्रव।
 अठखेली—(हि. स्त्री.) क्रीड़ा, कौतुक,
 खेल-कूद, उछल-कूद, चुलबुलापन।
 अठत्तर—(हि. वि., पुं.) सत्तर और आठ
 (से बनी हुई संख्या), ७८।
 अठनी—(हि. स्त्री.) आठ आने (आधे
 रुपये) की मुद्रा।
 अठपतिया—(हि. वि., स्त्री.) (एक प्रकार
 की बेलवटी) जिसमें आठ पतियाँ काटी
 जाती हैं।
 अठपहला, अठपहलू—(हि. वि.) आठ
 पहलों का।
 अठपाव—(हि. पुं.) उपद्रव, हलचल।
 अठमासा—(हि. वि.) आठ महीने का,
 आठ माघे की तौल का, ऊख बोनै के
 लिये जो खेत माघ महीने से अगस्त
 तक जोता जाये।
 अठमासी—(हि. वि.) आठ माघे की तौल-
 वाली गिन्नी।
 अठलाना—(हि. क्रि., अ.) देखें 'इठलाना'।
 अठबना—(हि. क्रि., अ.) एकत्र होना, एकट्ठा
 होना।
 अठवाँसा—(हि. वि.) आठ महीने में जन्म
 लेनेवाला; (पुं.) सीमन्तोन्नयन संस्कार
 जो गर्भ धारण के बाद आठवें महीने में
 होता है, आठ महीने गर्भाधान के बाद
 उत्पन्न होनेवाला बच्चा।
 अठवाई—(हि. वि.) उपद्रवी।
 अठवारा—(हि. पुं.) आठ दिन का काल,
 आठवाँ दिन, सप्ताह।
 अठवारी—(हि. स्त्री.) जमींदार को प्रत्येक
 आठवें दिन किसान से हल-दंड मिलाने
 की प्रथा।
 अट्टाली—(हि. स्त्री.) पालकी जिसकी
 आठ पहार होती हैं।
 अट्टत्तर—(हि. वि., पुं.) सत्तर और
 आठ (से बनी संख्या), ७८; -वाँ—(हि.
 वि.) अट्टत्तर संख्यावाला।

अठान—(हि. वि., पुं.) न धामने या गिरने
 करने योग्य, अनुचित कार्य, त्रोट, निर-
 नय, गनुता।
 अठाना—(हि. वि., स.) टकना, संवाद
 देना, पीड़ा पहुँचाना।
 अठारह, अट्टारह—(हि. वि., स.) दस
 और आठ (से बनी हुई संख्या), १८।
 -वाँ, -वाँ—(हि. वि.) अट्टारह गण्य
 वाला, अट्टारह के स्थान पर।
 अठाली—(हि. स्त्री., वि.) देखें 'अट्टाली'।
 अठिलाना—(हि. क्रि., अ.) देखें 'इठलाना'।
 अठोठ—(हि. पुं.) अठ-आठ, आठवर।
 अठोत्तर लौ—(हि. पुं.) एक लौ आठ की
 संख्या, १०८।
 अठोत्तरी—(हि. स्त्री.) एक लौ आठ लौ
 की जप करने की माला, एक लौ आठ
 वर्ष की आय।
 अठौरा—(हि. वि.) आठ का; (पुं.) आठ
 पत्तों से बना हुआ बोन।
 अट्टंग—(हि. वि.) देखें 'अट्टिग'।
 अट्टंगा—(हि. पुं.) रोक, बरबाद, अपमान,
 कुपती का एक दाँव; (मुहा.) अट्टना,
 मारना या लगाना—बाधा या अपमान
 डालना, वाचक होना।
 अट्टंगेबाज—(हि. पुं.) वह जो दूसरे के धन
 में अट्टंगा या बाधा डालता हो।
 अट्टंगेबाजी—(हि. स्त्री.) अट्टंगा लगाने
 की क्रिया या भाव।
 अट्ट—(हि. स्त्री.) हल, टोक।
 अट्टफाना—(हि. क्रि., अ.) अट्टना, गिरना।
 अट्टग—(हि. वि.) हल, गुप्त, उपद्रव।
 अट्टगड़ा—(हि. पुं.) गिरावले स्थानों
 का स्थान।
 अट्टगोड़ा—(हि. पुं.) गलती का दण्ड
 जो नष्टपट वस्तु के टुकड़े से बंधा
 जाता है जिसमें लूट-पट्टी-जाले की
 नहीं सतत, प्रतिभा, शक्ति।
 अट्टचन—(हि. स्त्री.) भ्रमण, भ्रमण, भ्रमण।
 अट्टुंडा—(हि. पुं.) भ्रमण का लिये
 हुआ देने का लिये लिये लिये लिये
 बाँधे जाती है।
 अट्टुपोपो—(हि. पुं.) लाल देना, अट्टु-
 पुन बनलानेवाला, भ्रमण, भ्रमण, भ्रमण,
 अट्टुडिया, लाल देना, भ्रमण, भ्रमण,
 भ्रमण, भ्रमण।
 अट्टान—(हि. स्त्री.) लाल, भ्रमण, भ्रमण,
 भ्रमण, भ्रमण, भ्रमण, भ्रमण, भ्रमण,
 अट्टाना—(हि. पुं.) भ्रमण, भ्रमण,
 अट्टानिज, अट्टानिज—(हि. वि., पुं.)
 भ्रमण और अट्ट (से बनी हुई संख्या),

४८; -चां-(हि. वि.) अङ्गितालिस संख्या वाले स्थान पर ।
 अङ्गितिस, अङ्गितिस-(हि. वि., पुं.) तीस और आठ (से बनी हुई संख्या), ३८ ।
 अङ्गितिसवां, अङ्गितिसवां-(हि. वि.) अङ्गितिस संख्यावाला ।
 अङ्गितार-(हि. वि.) अङ्गितेवाला, चलने में रुकनेवाला, अङ्गितार, मस्त ।
 अङ्गितार-(हि. क्रि. अ.) चलते-चलते रुक जाना, हठ करना, टेक ठानना, रुकना, अटकना ।
 अङ्गितारंग, अङ्गितारंग-(हि. वि.) टेढ़ा, ऊँचा-नीचा, दुर्गम, अङ्गितार, अपूर्व, विकट, वेडोला, वेडव ।
 अङ्गितारङ्ग-(हि. पुं.) व्यर्थ की वार्ता, गाली-गलौज; (मुहा.) - बकना-गाली-गलौज देना, प्रलाप करना ।
 अङ्गितारु, अङ्गितारु-(हि. वि., पुं.) साठ और आठ (से बनी हुई संख्या), ६८; -वां, -वां-(हि. वि.) अङ्गितार संख्या का ।
 अङ्गितारुल-(हि. पुं.) गहरे लाल रंग का पुष्प विशेष, देवीपुष्प, जपापुष्प ।
 अङ्गितारुली-(हि. स्त्री.) दो दलों में मारपीट के लिए मुकाबला, तत्परता या टेक ।
 अङ्गितारुली-(हि. पुं.) पशुओं को बाँधने का बाड़ा, ढेर, राशि, अङ्गितार ।
 अङ्गितारुली-(हि. पुं.) आडंबर, ढोंग, ढकोसला ।
 अङ्गितारुली-(हि. स्त्री.) विश्राम-स्थान, पड़ाव, पथिकों के ठहरने का स्थान ।
 अङ्गितारुली-(हि. क्रि. स.) रोकना, ठहरना, टिकाना, आड़ देना, टेक लगाना, फँसाना, ठूसना, भरना, ढरकाना; (पुं.) टेक, रोक, ठहराव, एक राग विशेष ।
 अङ्गितारुली-(हि. स्त्री.) रोकने का साधन, ओट, बड़ी पंखी, (पुं.) मल्लयुद्ध का एक दाँव ।
 अङ्गितारुली-(हि. पुं.) ढेर, राशि, लकड़ी का ढेर, लकड़ी की दुकान ।
 अङ्गितारुली-(हि. पुं.) एक विशेष प्रकार का नाच ।
 अङ्गितारुली-(हि. पुं.) न डोलनेवाला, निश्चल, स्थिर, अटल ।
 अङ्गितारुली-(हि. वि.) अङ्गितार चलनेवाला, शीघ्र कार्य न करनेवाला, हठी ।
 अङ्गितारुली-(हि. पुं.) साधुओं की टेककर बैठने की कुवड़ी ।
 अङ्गितारुली-(हि. स्त्री.) रोक, हठ, अवसर, अङ्गितार, चाँड़ ।
 अङ्गितारुली-(हि. वि.) अदृष्ट, गुप्त ।
 अङ्गितारुली-(हि. क्रि., स.) उड़ेलना, गिराना ।
 अङ्गितारुली-(हि. पुं.) औपवि विशेष ।
 अङ्गितारुली-(हि. वि.) न डोलनेवाला, स्थिर ।

अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. पुं.) पास-पङ्गितारुली, आस-पास ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. पुं.) पङ्गितारुली का रहनेवाला, पास रहनेवाला ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. पुं.) ढाल ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. पुं.) रहने का स्थान, निवास, डेरा, एकत्र होने या उठने-बैठने का स्थान, दुष्टों के इकट्ठा होने का स्थान, सेना के रहने का स्थान, पक्षियों के बैठने का स्थान, खरादने की लकड़ी का आधार, वेद्यालय, करगह ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. स्त्री.) लकड़ी छेदने की बरमी ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. पुं.) आड़तारुली करनेवाला, कमीशन पर माल बेचनेवाला, दलाल ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. क्रि. स.) कार्य में नियुक्त करना, आज्ञा देना ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. पुं.) दूसरों से काम करानेवाला ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. वि.) दो तथा आधा मिलकर बनी हुई संख्या, पाँच का आधा; २ १/२ ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. स्त्री.) काठ या पत्थर का बना हुआ छोटा पात्र, गारा दोने का तसला या कढ़ैया ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. पुं.) चोट, ठोकर ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. क्रि. अ.) ठोकर लगना, ठेस लगना, चोट खाना ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. पुं.) अढ़ाई सेर की तौल, पाँच सेर (पसेरी) का आधा, अढ़ाई गुने का पहाड़ा; (वि.) कार्य में नियुक्त करनेवाला, निडर ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि.) अघम, नीच, बकवादी, चुच्छ ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. स्त्री.) पहिये की घुरी की कील, नोक, आरा, अग्रभाग, धार, सीमा, किनारा, मेड़ ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. स्त्री.) अति सूक्ष्म परिमाण, आठ प्रकार की सिद्धियों में से वह सिद्धि जिसके द्वारा योगी अतिसूक्ष्म रूप धारण कर सकता है ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. अव्य.) एजी, अरी, ओजी ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि.) सूक्ष्म, छोटा, थोड़ा, अदृश्य; (पुं.) परमाणु, अति सूक्ष्म कण, धान, संगीतशास्त्र की एक मात्रा; -क-(सं. वि.) निपुण, चतुर, अल्प परिमाण का; -ता-(सं. स्त्री.) सूक्ष्मता, अल्पता; -त्व-(सं. पुं.) अणुभाव, सूक्ष्मता, अल्पता; -बम-(हि. पुं.) एक प्रकार का व्यापक विनाशकारी परमाणु विस्फोटक बम; -भा-(सं. स्त्री.) विद्युत्, विजली;

-मात्र-(सं. वि.) अल्प परिमाण, अल्प मात्रा का, थोड़ा-सा; -रेणु-(सं. पुं.) घूलि का कण; -रेवती-(सं. स्त्री.) जमालगोटा; -वाद-(सं. पुं.) वैशेषिक दर्शन अथवा न्याय शास्त्र जो परमाणु को नित्य मानते हैं, बल्लभाचार्य का मत जो जीव तथा ईश्वर को अणु मानता है; -वादी-(सं. पुं.) वैशेषिक, नैयायिक, बल्लभाचार्य के मत का अनुयायी; -वीक्षण-(सं. पुं.) सूक्ष्मदर्शक यंत्र जिसके द्वारा निकट की सूक्ष्म वस्तु बड़ी दीख पड़ती है, सूक्ष्म-दर्शन ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि.) तंत्र या तंतु-रहित ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि.) जिसे नींद न आती हो, निद्रा-रहित ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि.) अतंद्र ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि.) निद्रा-रहित ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. अव्य.) इस वास्ते, इस कारण से, इसलिये, इससे ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. अव्य.) अतः, इसलिए, इस कारण से ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. पुं.) टीला, ऊँचा स्थान, गिखर, भूमि के नीचे का भाग; (वि.) तटहीन ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. पुं.) तत्त्व को न जाननेवाला व्यक्ति ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि., पुं.) जो तथ्य न हो, झूठा, मिथ्या, अन्यथा, असमान, ऊँचा-नीचा ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. पुं.) एक विशेष प्रकार का अर्थालंकार जिसमें अत्यंत समीप होने पर भी किसी वस्तु का गुण अन्य वस्तु में संघटित नहीं होता ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि.) असदृश, असमान ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि., पुं.) विना देह का, अशरीर, कामदेव ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि.) शांत, ठंडा, जो गरम न हो ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि.) विना तपाया हुआ, ठंडा, कच्चा; -तनु-(सं. वि.) विना छापा लगा हुआ, जिसका शरीर तप इत्यादि से दुर्बल न हुआ हो ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. पुं.) इत्र, पुष्पनियमित, फूलों का सुगन्धित सत्त्व ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. पुं.) चाँदी का वह आधान या पात्र जिसमें अतर का फाहा रखकर सत्कार के निमित्त समा में सबको सूँघने के लिए रक्खा जाता है, इत्रदान ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(सं. वि.) जो तरल न हो, गाढ़ा ।
 अङ्गितारुली-पङ्गितारुली-(हि. पुं.) दरवाजे के चौखट के नीचे रखने की पत्थर की पटिया

अतिप्रमाण—(सं. वि.) अधिक प्रमाण-युक्त, जिसके लिये कोई प्रमाण न हो।
 अतिप्रवृत्ति—(सं. स्त्री.) अधिक प्रवृत्ति या झुकाव।
 अतिप्रवृद्ध—(सं. वि.) बहुत बढ़ा हुआ, अत्यन्त बढ़ा।
 अतिप्रश्न—(सं. पुं.) ऐसा प्रश्न जो समझ में न आवे।
 अतिप्रसंग—(सं. पुं.) प्रवल इच्छा, उत्कट अभिलाषा, अतिमैथुन।
 अतिप्रसवित—(सं. स्त्री.) बड़ी आसक्ति या चाह, घृष्टता।
 अतिप्राण—(सं. पुं.) स्वर्गीय जीवन।
 अतिप्रौढ़ा—(सं. स्त्री.) अच्छी तरह बड़ी हुई कन्या।
 अतिवरव—(हिं. पुं.) हिन्दी का एक छन्द जिसके पहिले और तीसरे चरण में बारह तथा दूसरे और चौथे चरण में नव मात्राएँ होती हैं।
 अतिवल—(सं. वि.) अतिप्रवल, बड़ा बलवान्।
 अतिवला—(सं. स्त्री.) एक पीली लता, ककही का पौधा, वरियारी।
 अतिवालक—(सं. पुं.) छोटा-सा बच्चा।
 अतिवाला—(सं. स्त्री.) दो वर्ष के बच्चे की बच्ची, शिशु।
 अतिवाहु—(सं. पुं.) अद्वितीय वाहुबल का मनुष्य।
 अतिब्रह्मचर्य—(सं. वि., पुं.) ब्रह्मचर्यआश्रम के वाद जिसने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया हो।
 अतिभार—(सं. पुं.) बड़ा भार, अत्यन्त वेग, पर्वत, वज्र; (वि.) अतिशय।
 अतिभारग—(सं. पुं.) बहुत भार ले जानेवाला, खच्चर।
 अतिभारारोपण—(सं. पुं.) पशु की पीठ पर बहुत बोझ लाना।
 अतिभी—(सं. स्त्री.) विजली, विद्युत्।
 अतिभूमि—(सं. स्त्री.) आविर्भाव, अधिकता।
 अतिभोजन—(सं. पुं.) अधिक भोजन, परिमाण से अधिक भोजन।
 अतिमंजुला—(सं. वि.) अति सुन्दर; (स्त्री.) सेवती का पौधा।
 अतिमति—(सं. स्त्री.) आग्रह, हठ।
 अतिमर्यादा—(सं. अव्य.) मर्यादा से बाहर; (वि.) अतिशय, बिना मर्यादा का।
 अतिमर्श—(सं. पुं.) निकट का संबंध।
 अतिमंगल्य—(सं. वि.) अति मंगलजनक; (पुं.) बेल का वृक्ष।
 अतिमात्र—(सं. वि.) प्रमाण से अधिक, बहुत अधिक।

अतिमान—(सं. पुं.) वृथा का अभिमान, बड़ा धमंड; (वि.) आवश्यकतासे अधिक।
 अतिमानी—(सं. वि.) बड़ा अभिमानी, बड़ा हठी।
 अतिमानुष—(सं. वि.) मनुष्य-धर्म से परे, दिव्य, दैवी।
 अतिमारुत—(सं. वि.) तूफान युक्त; (पुं.) आंधी।
 अतिमित—(सं. वि.) प्रमाण से अधिक।
 अतिमित्र—(सं. पुं.) परम मित्र, परम सुहृद्।
 अतिमुक्त—(सं. वि.) मुक्ति प्राप्त किया हुआ, निरर्थक; (पुं.) माधवी लता।
 अतिमुक्ति—(सं. स्त्री.) निर्वाण, परम मुक्ति।
 अतिमूत्र—(सं. पुं.) बहुमूत्र रोग।
 अतिमूर्ति—(सं. स्त्री.) दिव्यस्वरूप, सुन्दर रूप।
 अतिमृत्यु—(सं. पुं.) मोक्ष, अधिक मृत्यु, महामारी।
 अतिमैथुन—(सं. पुं.) अत्यन्त स्त्री-प्रसंग।
 अतिमोदा—(सं. वि.) अत्यन्त सुगन्धित; (स्त्री.) नवमल्लिका का पुष्प।
 अतियोग—(सं. पुं.) अधिक संबंध, किसी औषधि का मात्रा से अधिक प्रयोग।
 अतिरंजन—(सं. पुं.) बढ़ा-चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति।
 अतिरंजना—(सं. स्त्री.) अतिशयोक्ति।
 अतिरक्ता—(सं. स्त्री.) जपापुष्प, अड़हुल का फूल।
 अतिरथ—(सं. पुं.) बड़ा योद्धा, असंख्य शत्रुओं को पराजित करनेवाला योद्धा।
 अतिरभस—(सं. पुं.) अति तीव्र गति।
 अतिरसा—(सं. स्त्री.) मूर्वा लता।
 अतिरात्र—(सं. पुं.) वह यज्ञ जो एक ही रात्रि में आरंभ होकर समाप्त हो जावे।
 अतिरिक्त—(सं. वि.) नियत मात्रा या परिमाण से अधिक; (अव्य.) सिवाय, अलावा।
 अतिरिक्त पत्र—(सं. पुं.) क्रोड़पत्र।
 अतिरूप—(सं. वि.) रूपहीन, रूप से परे; (पुं.) ईश्वर, मनोहर आकृति।
 अतिरेक—(सं. पुं.) अतिशयता, अधिकता।
 अतिरोग—(सं. पुं.) क्षयरोग, राजयक्ष्मा।
 अतिरोघान—(सं. पुं.) ग्रंथकार का अभाव, प्रकाश; (वि.) प्रकाशित, खुला हुआ।
 अतिरो (लो) मश—(सं. पुं.) घने वालोंवाला जंगली बकरा, एक प्रकार का बन्दर; (वि.) घने रोयें से युक्त।
 अतिलंघन—(सं. पुं.) लंबा उपवास।
 अतिवक्ता—(सं. पुं.) बहुत बोलनेवाला, बोलबकड़, बकवादी।
 अतिवय—(सं. वि.) बहुत बूढ़ा।
 अतिवर्ती—(सं. वि.) अग्रगामी, आगे

जानेवाला।
 अतिवर्तुल—(सं. पुं.) बहुत ही गोलाकार।
 अतिवाल—(सं. पुं.) आंधी, तीव्र वायु।
 अतिवाद—(सं. पुं.) कठोर वचन, कड़ी बात, अत्युक्ति।
 अतिवादी—(सं. वि.) सच्चा, खरा, अपना पक्ष समर्थन करनेवाला, गर्वी।
 अतिवास—(सं. पुं.) श्राद्ध करने के पूर्व दिन का उपवास।
 अतिवाह—(सं. पुं.) लिंग शरीर का दूसरे शरीर में प्रवेश।
 अतिवाहिक—(सं. पुं.) सूक्ष्म शरीर, पातालवासी।
 अतिवाहित—(सं. वि.) अतिभ्रमण किया हुआ, लांघा हुआ।
 अतिविष—(सं. पु.) बचनानाग।
 अतिविषा—(सं. स्त्री., वि.) बहुत ही विषाक्त, अतीस।
 अतिवृत्ति—(सं. स्त्री.) आगे बढ़ जाना।
 अतिवृद्धि—(सं. स्त्री.) अधिक उन्नति।
 अतिवृष्टि—(सं. स्त्री.) बहुत वर्षा होना।
 अतिवेगित—(सं. वि.) बड़े वेग का, बड़ी तीव्रता का।
 अतिवैला—(सं. स्त्री.) विलंब, असमय।
 अतिव्ययन—(सं. पुं.), अतिव्यथा—(सं. स्त्री.) बड़ी पीड़ा।
 अतिव्यय—(सं. पुं.) अपरिमित व्यय, आवश्यकता से अधिक व्यय।
 अतिव्याप्त—(सं. वि.) सब स्थानों में व्याप्त या फैला हुआ।
 अतिव्याप्ति—(सं. स्त्री.) अधिक व्याप्ति, किसी लक्षण या कथन के अंतर्गत लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वस्तु के निर्देश को न्याय में अतिव्याप्ति का दोष कहते हैं।
 अतिशंका—(सं. स्त्री.) अत्यन्त भय, बहुत डर।
 अतिशय—(सं. वि.) बहुत अधिक या ज्यादा; (पुं.) अतिशयता, अधिकता।
 अतिशयन—(सं. पुं.) अधिक निद्रा।
 अतिशयोक्ति—(सं. स्त्री.) बहुत बढ़ाकर कही हुई बात, अतिरंजन, काव्य में एक अलंकार विशेष जिसमें किसी विषय की प्रधानता दिखलाने के लिए उसका बढ़ाकर वर्णन किया जाता है।
 अतिशयोपमा—(सं. स्त्री.) ऐसी उपमा जिसमें किसी वस्तु की उपमा दूसरी वस्तु के साथ न दी जा सके।
 अतिशस्त—(सं. वि.) अत्युत्तम।
 अतिशस्त्र—(सं. वि.) सब शस्त्रों में उत्तम या विनाशकारी।

अतिशायी

अतिशायी—(सं. वि.) अधिक, प्रचुर।
 अतिशौलन—(सं. पुं.) अम्याना।
 अतिशूद्र—(सं. पुं.) अन्त्यज, जिस शूद्र के हाथ का पानी छिजाति नहीं पीते।
 अतिशेष—(सं. वि.) बहुत थोड़ा-सा बचा हुआ, अल्पमात्र अवशिष्ट।
 अतिशोभन—(सं. वि.) बहुत सुंदर, अति ललित या मनोहर।
 अतिशोष—(सं. पुं.) क्षयरोग।
 अतिसंवात—(सं. पुं.) विश्वासघात, वंचना, धोखा, छल-कपट।
 अतिसंभित—(सं. वि.) ठगा हुआ।
 अतिसर्ग—(सं. पुं.) उत्सर्ग, दान।
 अतिसर्जन—(सं. पुं.) विसर्जन, अधिक दान।
 अतिसांवत्सर—(सं. वि.) एक वर्ष से अधिक काल का।
 अतिसामान्य—(सं. पुं.) वह उचित जो इतने अधिक सामान्य रूप से कही जाय कि उसका आशय पूर्ण रूप से न घटे; (वि.) बहुत ही सामान्य।
 अतिसार—(सं. पुं.) एक उदर रोग जिसमें आंव तथा रश्मि मिला हुआ शोच होता है।
 अतिसारी—(सं. वि.) अतिसार रोग से ग्रस्त या पीड़ित।
 अतिगुल्म—(सं. वि.) सरलता से मिलने-वाला, बहुत सुलभ।
 अतिवृष्टि—(सं. स्त्री.) अपूर्व संसार।
 अतिस्तुति—(सं. स्त्री.) बड़ी स्तुति या प्रशंसा, अत्यधिक प्रशंसा।
 अतिस्निग्ध—(सं. वि.) बहुत चिकना, अत्यंत प्रिय।
 अतिखवा—(सं. स्त्री.) महुवा का वृक्ष।
 अतिस्वप्न—(सं. पुं.) अधिक नींद आना।
 अतिहसित—(सं. पुं.) हँसी का अतिशय, जोर की हँसी।
 अतिहास—(सं. पुं.) जोर की हँसी।
 अतीन्द्रिय—(सं. वि.) इंद्रियों के बोध से परे, अपोचर।
 अतीक्षण—(सं. वि.) जो तीक्ष्ण या तीव्र न हो, अतीक्ष्ण।
 अतीत—(सं. वि.) अतिक्रान्त, बीता हुआ; -काल—(पुं.) बीता हुआ समय, भूत-काल।
 अतीतना—(हिं. क्रि., अ.) बीतना, छोड़ देना।
 अतीत—(सं. वि.) अतिगत, अत्यंत, गहन।
 अतीत—(सं. वि.) जो तीव्र न हो।
 अतीत—(हिं. पुं.) एक पहाड़ी पौधा जिसकी जड़ औषधि के काम में आती है, अतिविषा।

अतुंग—(सं. वि.) जो ऊँचा न हो, छोटा, बीना, ठिगना।
 अतुंद—(सं. वि.) दुर्बल, जो बलिष्ठ न हो।
 अतुराई—(हिं. स्त्री.) चंचलता, आतुरता, जल्दी, उतावलापन।
 अतुराना—(हिं. क्रि., अ.) आतुर होना, गड़बड़ाना, जल्दी करना।
 अतुल—(सं. पुं.) कफ, तिल; (वि.) अनुपम, बहुत अधिक, तुलना-रहित, असीम।
 अतुलनीय—(सं. वि.) अद्वितीय, अपार, अपरिमित, बेजोड़, बहुत अधिक।
 अतुलित—(सं. वि.) बिना तौला हुआ, अधिक, अपार, अपरिमित, तुलना-रहित, असंख्य।
 अतुल्य—(सं. वि.) अनुपम, असदृश, बेजोड़।
 अतुल्ययोगिता—(सं. स्त्री.) एक अलंकार जिसमें अनेक पदार्थों का धर्म होते हुए भी किसी विशिष्ट पदार्थ का विरुद्ध आचरण दिखलाया जावे।
 अतुप—(सं. वि.) बिना भूसी या छिलके का।
 अतुष्टि—(सं. स्त्री.) असंतोष, लालच।
 अतुष्टिकर—(सं. वि.) संतोष न देने-वाला, अरुचिकर।
 अतुथ—(हिं. वि.) बहुत ऊँचा, अपूर्व, विलक्षण।
 अतुप्त—(सं. वि.) असंतुष्ट, जिसका पेट न भरा हो।
 अतृप्ति—(सं. स्त्री.) असंतोष, चित्त की अशांति, असंतुष्टि।
 अतृष्ण—(सं. वि.) बिना तृष्णा का, जिसको लालच न हो।
 अतृष्णा—(सं. स्त्री.) लालसा न होना, अलोभ, निष्कामना।
 अतेज—(सं. वि.) बिना चमक का, धुंधला, प्रकाशहीन।
 अतो—(हिं. वि.) न दूटनेवाला, दृढ़, पुष्ट।
 अतोल—(हिं. वि.) बिना तौल का, अनोखा, बहुत अधिक।
 अतोपणीय—(सं. वि.) संतुष्ट न होने योग्य।
 अतोल—(हिं. वि.) बेतौल, बिना तौल का।
 अतल—(हिं. स्त्री.) बहुत, ज्यादा, अधिक।
 अत्ता—(सं. स्त्री.) माता, सास।
 अत्तार—(हिं. पुं.) इन बेचनेवाला, गंधी, यनानी औषधियों का विक्रेता।
 अत्तिका—(सं. स्त्री.) बड़ी बहिन।
 अत्यंत—(सं. वि.) बहुत ज्यादा या अधिक, अतिगत, नितान्त; (अव्य.) अत्यधिक, बहुत; (पुं.) अति, अतिगतना।
 अत्यंतसंपर्क—(सं. पुं.) बहुत अधिक एक साथ रहना।

अत्यंतभाव—(सं. पुं.) किसी पदार्थ का विलकुल न होना, पूर्ण रूप से न होना, सब प्रकार की न्यूनता, परमन्यूनता।
 अत्यंतिक—(सं. वि.) बहुत घूमनेवाला, बहुत कम दूरी का, सयोग का, निकटवर्ती।
 अत्यग्नि—(सं. पुं.) धुवा का अधिक लगना।
 अत्यद्भूत—(सं. वि.) बड़ा आश्चर्य-जनक, बड़ा अनोखा।
 अत्यम्ल—(सं. पुं.) इमली का वृक्ष; (वि.) बहुत खट्टा।
 अत्यम्ला—(सं. स्त्री.) विजोरा नींबू।
 अत्यय—(सं. पुं.) अभाव, नाश, दाद, दंड, दुःख, कष्ट, सीमा से बाहर जाना।
 अत्यय—(सं. पुं.) अतिगत, बहुतायत; (अव्य.) बहुतायत से।
 अत्यल्प—(सं. वि.) बहुत थोड़ा, बहुत कम।
 अत्याकार—(सं. पुं.) अपयश, तिरस्कार।
 अत्याग—(सं. पुं.) त्याग का अभाव।
 अत्यागी—(सं. वि.) त्याग न करनेवाला।
 अत्याचार—(सं. पुं.) दूसरों को सताने का भाव, सदाचार का उल्लंघन, अन्याय, बुरा आचरण, पाप, पारसंड, आडंबर।
 अत्याचारी—(सं. वि.) अत्याचार करने-वाला, अन्यायी, पाखंडी।
 अत्याज्य—(सं. वि.) त्याग न करने योग्य, जो छोड़ा न जा सके।
 अत्यायु—(सं. वि., पुं.) अधिक वय का (मनुष्य), बयोवृद्ध।
 अत्युक्त—(सं. वि.) बहुत बढ़ाकर कहा हुआ।
 अत्युचित—(सं. स्त्री.) असंगत उक्ति, बहुत बढ़ाकर वर्णन करने की रीति, एक अलंकार जिसमें किसी वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ाकर किया जाता है।
 अत्युत्कट—(सं. वि.) बड़ा उग्र भाव भयंकर।
 अत्युत्साह—(सं. पुं.) बड़ा उत्साह या पराक्रम।
 अत्र—(सं. अव्य.) इस विषय में, इस स्थान में, यहाँ पर, यहाँ।
 अत्रपु—(सं. वि.) निरंजज।
 अत्रस्त—(सं. वि.) अवरहित, न करा हुआ।
 अत्रास—(सं. पुं.) नय का अभाव, निरर होना, निरंयता।
 अत्रि—(सं. पुं.) सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जो ब्रह्मा के नेत्र से उत्पन्न हुये थे।
 अत्रंगण्य—(सं. पुं.) मरु, रुद्र, तथा इन-इन तीनों गुणों का अभाव जिसकी मान्य-वादी मोक्ष नहीं है।
 अत्ररा—(सं. स्त्री.) धीजा का भाव होना, भयं।
 अत्र—(सं. अव्य.) अत्र, इस समय, अत्र पर आरत में।

अथक—(हि. पुं.) वह भोजन जो संख्या होने में पहिले किया जाय।

अथक—(हि. वि.) न थकनेवाला, बहुत परिश्रमी, अक्लांत।

अथक—(सं. अव्य.) फिर, और भी।

अथरा—(हि. पुं.) मिट्टी की चौड़ी नाँद।

अथरी—(हि. स्त्री.) मिट्टी का खुले मुँह का छोटा पात्र, दही जमाने का पात्र।

अथर्व—(सं. पुं.) चतुर्थ वेद का नाम।

अथवा—(सं. अव्य.) किंवा, या, वा।

अथाई—(हि. स्त्री.) घर के सामने का मैदान, अगवार, चबूतरा, बैठक, पंचायत करने का स्थान।

अथाना—(हि. क्रि. अ., स.) अस्त होना, डूबना, गहराई नापना, पानी की थाह लेना या लगाना।

अथापि—(सं. अव्य.) अब भी, इस तरह।

अथाह—(हि. वि.) जो बहुत गहरा हो, बेथाह, अपार, अनंत, गंभीर, बहुत अधिक, अतिगूढ़, अगाध।

अथिर—(हि. वि.) अस्थिर, चलायमान।

अदक—(हि. पुं.) आतंक, मय, डर।

अदंड—(हि. वि.) जो दंड के योग्य न हो, अदंडनीय, जिस पर कर न लगे, उद्दंड, स्वेच्छाचारी, निर्भय।

अदंडनीय, अदंड्य—(सं. वि.) जो दंड के योग्य न हो।

अदंत—(हि. वि.) जिसे दाँत न हो, विना दाँत का।

अदंभ—(हि. वि.) जिसे दंभ न हो, दंभरहित; (पुं.) दंभ का अभाव, सादगी, सरलता, सिचाई।

अदक्ष—(सं. वि.) जो निपुण न हो, अकुशल।

अदक्षिण—(सं. वि.) प्रतिकूल, विरुद्ध, बायाँ, अचतुर, गवाँर।

अदाग—(हि. वि.) विना दाग का, निरपराध, स्वच्छ, अछूता, विना अपयश का।

अदाघ—(सं. वि.) विना जलाया हुआ, जिसकी विधिपूर्वक दाहक्रिया न हुई हो।

अदत्त—(सं. वि., पुं.) विधिवत् न दिया हुआ, जो दान शास्त्रानुसार न दिया गया हो।

अदत्तदान—(सं. पुं.) विना दिया हुआ दान, बलपूर्वक या चोरी से प्राप्त पदार्थ।

अदत्तदायी—(सं. पुं.) अदत्त संपत्ति को देनेवाला, ठग, चोर।

अदत्ता—(सं. स्त्री.) अविवाहित कन्या; (त्रि. स्त्री.) जो न दी गई हो।

अदद—(अ. पुं.) संख्या, गिनती।

अदग—(सं. पुं.) भोजन, भक्षण, भक्षणीय या भक्षण पदार्थ।

अदना—(अ. वि.) छोटा, तुच्छ, मामूली।

अदनीय—(सं. वि.) भोजन करने योग्य।

अदव—(अ. पुं.) विनय, शिष्टता, बड़ों का सम्मान।

अदवदाकर—(हि. अव्य.) हठ से, जान-बूझकर, अवश्य, टेक करके।

अदव-लिहाज—(अ. पुं.) शिष्टता और लज्जा, शिष्टाचार।

अदभ्र—(सं. वि.) अधिक, प्रचुर, अपार, बहुत ज्यादा।

अदम्य—(सं. वि.) जो दमन न किया जा सके, प्रबल, अजेय।

अदय—(सं. वि.) दयारहित, निष्ठुर, निर्दय।

अदयालु—(सं. वि.) करुणा-रहित, क्रूर।

अदरक—(हि. पुं.) एक पौधा जिसकी गाँठें दवा के रूप में चटनी बनाकर खायी जाती हैं, आद्रेक, अदरख।

अदरकी—(हि. स्त्री.) सोंठ में गुड़ मिलाकर बनी हुई टिकिया, सोंठौरा।

अदराना—(हि. क्रि. अ.) आदर पाने की इच्छा करना, इतराना, अभिमानी बनना।

अदर्श—(हि. पुं.) दर्पण, आईना।

अदर्शन—(सं. पुं.) दर्शन का अभाव, लोप, असावधानी; (वि.) न देख पड़नेवाला, अगोचर।

अदर्शनीय—(सं. वि.) जो देखने योग्य न हो, कुरूप, भद्दा।

अदल-बदल—(हि. पुं.) परिवर्तन, उलट-फेर, हेर-फेर।

अदला-बदली—(हि. स्त्री.) लेन-देन, उलट-फेर, हेर-फेर।

अदली—(हि. वि.) न्यायी, पक्षपातहीन।

अदवाइन, अदवान—(हि. स्त्री.) ओतचन, रस्सी जो चारपाई के पैताने की ओर इसकी विनावट को कसने के लिये लगाई जाती है।

अदहन—(हि. पुं.) पानी जो बरतन में भरकर चावल या दाल के लिये आँच पर रक्खा जाता है; (क्रि. प्र.)—देना-दाल-भात पकाने के लिये पानी आग पर चढ़ाना।

अदांत—(सं. वि.) जो वश या कावू में न किया गया हो।

अदांत, अदांता—(हि. वि.) बैल, गाय, भैंस आदि जिसे दाँत न जमा हो।

अदा—(अ. स्त्री.) देना, चुकाना।

अदाता—(सं. पुं.) न देनेवाला, कृपण, कंजूस, अनुदार।

अदान—(सं. पुं.) कंजूस, कृपण; (वि.) अज्ञान, निवृद्धि, नासमझ।

अदानी—(हि. वि.) कृपण, कंजूस।

अदान्य—(सं. वि.) कृपण, कंजूस।

अदाय—(सं. वि.) पैतृक संपत्ति का अंश न पाने योग्य।

अदायाद—(सं. वि.) जो सपिण्ड न हो, पतित, असपिण्ड।

अदार—(सं. पुं.) पत्नीरहित।

अदाव—(हि. पुं.) कठिनता, दावपेंच, धोखा।

अदावत—(अ. स्त्री.) वैर, शत्रुता।

अदावती—(अ. वि.) अदावत संबंधी, अदावत करनेवाला।

अदास—(सं. वि.) जो दास न हो, स्वतंत्र।

अदाहक—(सं. वि.) जिसमें जलाने की शक्ति न हो।

अदाह्य—(सं. वि.) जिस मृतक की दाह-क्रिया शास्त्र के अनुसार न की जा सके, जो जलाया न जा सके।

अदिति—(सं. स्त्री.) दक्ष प्रजापति की कन्या तथा देवताओं की माता, पृथ्वी, वाणी, प्रकृति, देवलोक, रक्षा, पूर्णता, माता, पिता; —ज, —नंदन, —सुत—

(सं. पुं.) अदिति के पुत्र, देवता लोग।

अदिन—(हि. पुं.) कुसमय, बुरा दिन, अभाग्य, दुःख का समय।

अदिव्य—(सं. वि.) जो दिव्य या स्वर्गीय न हो, संसारी, लौकिक, सामान्य।

अदिष्ट—(हि. पुं.) दुर्दिन, दुर्भाग्य।

अदिष्टी—(हि. वि.) जो दूरदर्शी न हो, मूर्ख, दुष्ट, अभागा, हतभाग्य।

अदीक्षित—(सं. वि.) जिसको दीक्षा न मिली हो, जो गुरुमुख न हुआ हो।

अदीठ—(हि. वि.) विना देखा हुआ, अदृष्ट, गुप्त, छिपा हुआ।

अदीन—(सं. वि.) धनी, उदार, अनम्र, अदुःखित, दीनतारहित, निडर।

अदीनात्मा—(सं. वि.) बड़ा उदार।

अदीपित—(सं. वि.) न जलाया हुआ।

अदीयमान—(सं. वि.) जो न दिया जा सके, अदेय।

अदीर्घ—(सं. वि.) जो लंबा न हो, नाटा।

अदुंद—(हि. वि.) झगड़ा-बखेड़ा से परे, निर्द्वंद, वैफिक।

अदुःख—(सं. वि.) दुःख से रहित, प्रसन्न; (पुं.) दुःख का अभाव।

अदूजा—(हि. वि.) अद्वितीय।

अदूर—(सं. वि.) निकट का, समीप का; (अव्य.) पास, निकट; (पुं.) सामीप्य।

अदूरदर्शी—(सं. वि.) दूर का हिताहित न विचारनेवाला, जो किसी बात का अंत न देखे, विचाररहित।

अद्वैतभव—(सं. वि.) पास में रहनेवाला ।
 अद्वैतपण—(सं. वि.) निर्दोष, स्वच्छ, शुद्ध ।
 अद्वैतपित—(सं. वि.) जिसमें दोष न हो, निर्दोष, विमल ।
 अद्वैत—(सं. वि.) अस्थिर, ढीला, डावाँ-डाल, चंचल ।
 अद्वैत—(सं. वि.) जो आँखों से दिखाई न पड़े, अगोचर, लुप्त ।
 अद्वैत—(सं. वि.) न देखा हुआ, अवीक्षित, लुप्त; (पुं.) भाग्य, भावी, आपत्ति; -कर्मा—(वि.) अनुभवहीन; -काम—(पुं.) विना देखी हुई वस्तु के लिए लालसा; -पूर्व—(वि.) जो पहिले न देखा गया हो, निराला, अनोखा; -फल—(पुं.) फल जो देख न पड़े, भावी परिणाम या फल; -रूप—(पुं.) ऐसा रूप जो पहिले न देखा गया हो; -वाद—(पुं.) केवल भाग्य पर भरोसा करने का सिद्धांत, प्रारब्धवाद ।
 अद्वैताक्षर—(सं. पुं.) ऐसे लिखे हुए अक्षर जो देख न पड़ें ।
 अद्वैतार्थ—(सं. वि.) जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके ।
 अद्वैत—(सं. स्त्री.) कोपदृष्टि, क्रूर दृष्टि; (वि.) अंधा ।
 अदेख—(हिं. वि.) न देखा हुआ, लुप्त, छिपा हुआ ।
 अदेखी—(हिं. वि.) जो ईर्ष्या के कारण दूसरे का सुख न देख सके, ईर्ष्यालु, डाह रखनेवाला, डाही ।
 अदेय—(सं. वि.) दान न देने योग्य, न समर्पण करने योग्य; -दान—(पुं.) अनुचित या अवैध दान ।
 अदेव—(सं. वि.) जो देवता से संबंधित न हो; (पुं.) निशाचर, राक्षस ।
 अदेश—(सं. पुं.) अयोग्य स्थान, म्लेच्छदेश; -ज—(वि.) अयोग्य स्थान में उत्पन्न; -स्थ—(वि.) अयोग्य देश में रहनेवाला ।
 अदेह—(सं. वि.) शरीररहित; (पुं.) कामदेव ।
 अदेव—(सं. वि.) जो दैव या देवताओं से संबद्ध न हो ।
 अदोष—(सं. पुं.) दोष का अभाव; (वि.) निर्दोष, निरपराध, पापरहित ।
 अदोह—(सं. पुं.) दूध न दूहने का समय ।
 अदोरी—(हिं. स्त्री.) उरद की सूखी हुई वरी ।
 अद्धा—(हिं. पुं.) आधा टुकड़ा, आधा परिमाण, आधा बोटल, प्रत्येक घंटे के बीच में तीस-तीस मिनट पर बजनेवाला घंटा ।
 अद्धी—(हिं. स्त्री.) आधी दमड़ी, एक पैरों का मोरहवाँ भाग, महीन तंजैव ।
 अद्भुत—(सं. वि.) विचित्र, विलक्षण,

अलौकिक, अनूठा; (पुं.) अलंकार में नौरसों के अंतर्गत एक रस जिसका स्थायी भाव विस्मय है; -कर्मा—(वि.) अनोखा काम दिखलानेवाला; -गंध—(वि.) अलौकिक गंध का; -तम—(वि.) बड़ा ही विलक्षण; -ता (स्त्री.), -त्व—(पुं.) विलक्षणता, निरालापन ।
 अद्भुतोपमा—(सं. स्त्री.) उपमा अलंकार का एक भेद जिसमें उपमेय के विलक्षण गुण उपमान में कभी संभव न हों ।
 अद्य—(सं. अव्य.) आज, अभी, अब; -तन—(वि.) आज के दिन का, आज का, नया; -भूत—(पुं.) आज के दिन से पहिले का काल ।
 अद्यतनीय—(सं. वि.) आज का ।
 अद्यापि—(सं. अव्य.) अब या आज भी, आज तक, अभी तक ।
 अद्यावधि—(सं. अव्य.) आज से आगे, आज तक ।
 अद्रव—(सं. वि.) जो तरल न हो, घना, गाढ़ा, ठोस ।
 अद्रव्य—(सं. पुं.) निकम्मी वस्तु ।
 अद्रि—(सं. पुं.) पर्वत, पहाड़, पत्थर, सूर्य; -का—(सं. स्त्री.) घान्यक, घनियाँ; -कीला—(सं. स्त्री.) पृथ्वी, भूमि; -ज—(सं. पुं.) शिलाजीत, गेरु; -जा—(सं. स्त्री.) गिरिराज-कन्या, पार्वती, गंगा; -तनया—(सं. स्त्री.) पार्वती, गंगाजी, तेईस वर्णों का एक छन्द; -नंदिनी—(सं. स्त्री.) पर्वत की कन्या, पार्वती; -पति, -राज—(सं. पुं.) हिमालय पर्वत ।
 अद्रोह—(सं. पुं.) द्रोह न होना, डाह का अभाव; -वृत्ति—(वि.) जिसके स्वभाव में ईर्ष्या न हो ।
 अद्रोही—(सं. वि.) कभी द्रोह न करनेवाला, अद्रोह ।
 अद्धार—(सं. पुं.) गुप्तद्धार; (वि.) विना किवाड़े का ।
 अद्विज—(सं. वि.) जो द्विज या ब्राह्मण न हो, शूद्र ।
 अद्वितीय—(सं. वि.) अकेला, जिसकी तरह का दूसरा कोई न हो, अतुल्य, बेजोड़, अनुपम, प्रधान, विलक्षण, केवल ।
 अद्वेप—(सं. पुं.) ईर्ष्या का अभाव, द्वेषाभाव । (वि.) जो द्वेष से रहित हो, द्वेषरहित ।
 अद्वेषी—(हिं. वि.) द्वेष न करनेवाला ।
 अद्वैत—(सं. वि.) अतुल्य, भेदरहित, अद्वितीय, अनुपमा; (पुं.) ब्रह्म तथा जीव की अनिन्नता; -वाद—(सं. पुं.)

वह सिद्धांत जिसके अनुसार संसार असार है और ब्रह्म से ही संपूर्ण जगत् की उत्पत्ति है, वेदांत मत; -वादी—(सं. वि.) ब्रह्मवादी, अद्वैत मत को माननेवाला, वेदांती ।
 अध—(सं. अव्य.) नीचे (संयुक्त पदों में आदि में लगकर 'नीचे' या 'नीचे का' अर्थ प्रकट करता है); -कर—(पुं.) हाथ के नीचे का भाग; -काय—(पुं.) शरीर का कमर से नीचे का भाग; -क्षिप्त—(वि.) नीचे गिराया हुआ; -पतन—(पुं.) नीचे को गिरना, अवनति, दुर्गति, दुर्दशा; -पात, -पातन—(पुं.) अधोगति, दुर्दशा, नीचे को गिराने का कार्य; -पुष्पी—(स्त्री.) सौंफ; -शयन—(पुं.) भूमि पर सोना; -शय्या—(स्त्री.) भूमिशय्या; स्थित—(वि.) नीचे स्थित या विद्यमान ।
 अध—(हिं. वि.) अर्ध या आधा के अर्थ में कुछ संयुक्त शब्दों के साथ उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है, यथा—अधखिला, अधमरा, अधना इत्यादि ।
 अधकचरा—(हिं. वि.) आधा कच्चा, अपूर्ण, अधूरा, अपरिपक्व, अदक्ष, अकुशल ।
 अध-कच्छा—(हिं. पुं.) नदी के तट की ढालुवाँ भूमि ।
 अधकछार—(हिं. पुं.) पहाड़ की ढालुवाँ उपजाऊ भूमि ।
 अधकपारी—(हिं. स्त्री.) आधे सिर की वेदना, आधासीसी, सूर्यावर्त ।
 अधकरिया, अधकरी—(हिं. स्त्री.) माल-गुजारी, लगान आदि की आधी किस्त ।
 अधकहा—(हिं. वि.) आधा कहा हुआ, अस्पष्ट ।
 अधखिला—(हिं. वि.) आधा खिला हुआ, जो पूरा खिला न हो, अर्ध-प्रस्फुटित ।
 अधखुला—(हिं. वि.) आधा खुला हुआ, अर्धान्मीलित ।
 अधगोरा—(हिं. पुं.) युरोपीय और गैर युरोपीय मां-बाप की संतान, युरेशियन ।
 अधघट—(हिं. वि.) जिसका अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट न हो ।
 अधचरा—(हिं. वि.) आधा चरा हुआ ।
 अधड़ा—(हिं. वि.) विना आधार का, विना घट का, असंबद्ध ।
 अधड़ी—(हिं. वि.) बाधारहीन, विना सिर-पैर का ।
 अधन—(सं. वि.) धनहीन, निर्धन, गंगाल ।
 अधना—(हिं. पुं.), अधत्री—(हिं. स्त्री.) नाथ आने की एक मुद्रा ।

अधित्यका—(सं. स्त्री.) पर्वत के ऊपर की विस्तृत समतल भूमि या मैदान ।
 अधिदेव, अधिदेवता—(सं.पुं.) देवताओं का अधिप या वरिष्ठ, परमेश्वर ।
 अधिदेव, अधिदेवत—(सं. पुं.) अधिदेव ।
 अधिदैविक—(सं. वि.) परमेश्वर या आत्मा सम्बन्धी ।
 अधिनाय—(सं.पुं.) बड़ा मालिक, सरदार ।
 अधिनायक—(सं.पुं.) निरंकुश शासक, तानाशाह, प्रभु, मालिक ।
 अधिनायकी—(हि. स्त्री.) अधिनायक का पद, शासन या वृत्ति ।
 अधिप—(सं. पुं.) राजा, स्वामी, ईश्वर, सरदार, मालिक ।
 अधिपति—(सं. पुं.) प्रभु, स्वामी, पति, मुखिया, नायक ।
 अधिपत्नी—(सं. स्त्री.) महारानी, साम्राज्ञी ।
 अधिपुरुष—(सं.पुं.) श्रेष्ठ पुरुष, परमेश्वर ।
 अधिभ—(सं. पुं.) स्वामी, राजा, पति ।
 अधिभोजन—(सं. पुं.) अधिक भोजन ।
 अधिभौतिक—(सं. वि.) आधिभौतिक, पाँच भातों से संबद्ध ।
 अधिमांस—(सं. पुं.) वह रोग जिसमें शरीर में कहीं पर मांस बढ़ जाता है ।
 अधिमात्र—(सं. वि.) अधिक मात्रा का ।
 अधिमास—(सं.पुं.) अधिक मास, मलमास ।
 अधिमुषितका—(सं. स्त्री.) शक्ति, सीप ।
 अधियज्ञ—(सं. पुं.) प्रधान यज्ञ ।
 अधिया—(हि. स्त्री.) अधाश, आधा भाग, अनाज की उपज का आधा-आधा बँटवारा ।
 अधियान—(हि. पुं.) जप करने की गोमुखी ।
 अधियाना—(हि. क्रि. अ., स.) आधा होना या करना, दो बराबर के टुकड़े या भाग करना ।
 अधियार—(हि. पुं.) संपत्ति का आधा हिस्सा, आधे का मालिक या हिस्सेदार ।
 अधियारी—(हि. स्त्री.) संपत्ति के आधे को हक या हिस्सा ।
 अधियोग—(सं. पुं.) ज्योतिष में ग्रहों का एक शुभ योग या लग्न ।
 अधिरथ—(सं. पु.) रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा, सारथी, बड़ा रथ ।
 अधिरथी—(सं. पुं.) सूर्य, समुद्र ।
 अधिराज—(सं. पु.) अधीश्वर, सम्राट, महाराज ।
 अधिराज्य—(सं. पुं.) साम्राज्य ।
 अधिराष्ट्र—(सं. पुं.) राज्य, साम्राज्य ।
 अधिरुद्ध—(सं. वि.) चढ़ा हुआ, वृद्धियुक्त ।
 अधिरोपण—(सं. पुं.) ऊपर को चढ़ाना या उठाना ।

अधिरोपित—(सं. वि.) ऊपर चढ़ाया हुआ ।
 अधिरोह, अधिरोहण—(सं. पु.) ऊपर का चढ़ाव ।
 अधिरोहणी—(सं. स्त्री.) सोपान, सीढ़ी ।
 अधिलोक—(सं. पुं.) संसार, ब्रह्मांड ।
 अधिवक्ता—(सं. पुं.) वरिष्ठ वकील, एडवोकेट, वारिस्टर ।
 अधिवास—(सं. पुं.) ठहरने का स्थान, निवास, पड़ोसी, सुगंध, दूसरे के घर में रहना, देर तक रहना, विवाह के पहले वर तथा कन्या को उवटन लगाने की प्रथा ।
 अधिवासन—(सं. पुं.) स्थापन, अधिवास ।
 अधिवासित—(सं. वि.) सुगंधित, स्थापित ।
 अधिवासी—(सं. वि.) स्थापित, रहनेवाला, टिकनेवाला, निवासी; (पुं.) सिकमी खेतिहर या काश्तकार ।
 अधिवेत्ता—(सं. पुं.) एक पत्नी रहते हुए दूसरी से विवाह या प्रेम करनेवाला मनुष्य ।
 अधिवेशन—(सं. पुं.) विधान सभा, न्यायालय आदि की बैठक, दलों या संस्थाओं का औपचारिक जलसा या सभा ।
 अधिशयन—(सं. पुं.) लेटना, सोना ।
 अधिशायित—(सं. वि.) लेटा हुआ ।
 अधिश्री—(सं. स्त्री.) अत्यंत श्री या शोभा ।
 अधिष्ठाता—(सं. पुं.) अध्यक्ष, सरदार, मुखिया, रक्षक, राजा, ईश्वर, किसी बड़े उद्योग या संस्था आदि की स्थापना करनेवाला ।
 अधिष्ठान—(सं. पुं.) रहने का स्थान, नगर, सहरा, आश्रय, आधार, स्थिति, अधिकार, सत्ता, भ्रम का आरोपण करने की वस्तु, सांख्य दर्शन में भोक्ता और भोग्य का संयोग; -शरीर—(सं. पुं.) वह सूक्ष्म शरीर जिसमें मृत्यु के उपरांत आत्मा पितृलोक में रहता है ।
 अधिष्ठापक—(सं. पुं.) देखें 'अधिष्ठाता' ।
 अधिष्ठित—(सं. वि.) नियुक्त, स्थापित, बसा हुआ, निर्वाचित, देखा-भाला ।
 अधीत—(सं. वि.) अध्ययन किया हुआ, पढ़ा हुआ ।
 अधीन—(सं. वि.) वसीमूत, आश्रित, विवश, दबल; -ता—(स्त्री.) परवशता, लाचारी, दीनता; -त्व—(पुं.) परवशता, लाचारी, दीनता ।
 अधीयान—(सं. पुं.) पढ़नेवाला विद्यार्थी ।
 अधीर—(सं. वि.) जो धीर न हो, धैर्यहीन, बेचैन, अस्थिर, चंचल, कातर, व्याकुल, मूर्ख, आतुर, धबड़ाया हुआ ।
 अधीरता—(हि. स्त्री.) अस्थिरता, बेचैनी ।

अधीरा—(सं. स्त्री.) विजली, वह नायिका जो अपने प्रेमी में विलास के चिह्न देखकर अधीर हो जाती परंतु क्रोध दिखलाती है ।
 अधीश, अधीश्वर—(सं. पुं.) अधिपति, राजा, मालिक, प्रभु, अध्यक्ष, राजाधिराज ।
 अधुना—(सं. अव्य.) अभी, आजकल, इन दिनों ।
 अधुनातन—(सं. वि.) वर्तमान काल का, एतत्कालीन, हाल का ।
 अधुर—(सं. वि.) विना बोझ या चिंता का, निर्विचल ।
 अधृत—(हि. वि.) निडर, घुंष्ट, ढीठ ।
 अधूरा—(हि. वि.) अपूर्ण, खंडित, असमाप्त, आधा ।
 अधृत—(सं. वि.) धारण न किया हुआ ।
 अधृति—(सं. स्त्री.) धीरता का अभाव, उतावलापन, आतुरता ।
 अधृष्ट—(सं. वि.) जो प्रगल्भ न हो, लज्जावान् ।
 अधेगा—(हि. पुं.) एक प्रकार का भूरे रंग का पक्षी ।
 अधेड़—(हि. वि.) ढलती अवस्था का, युवावस्था को पार किया हुआ ।
 अधेला—(हि. पुं.) आधा पैसा ।
 अधेली—(हि. स्त्री.) आठ आने की सूत्र, अठनी ।
 अधैर्य—(सं. पुं.) धैर्यशून्यता, चंचलता, उतावलापन, व्याकुलता; -वान्—(वि.) चंचल, व्याकुल, उतावला ।
 अधो—(सं. अव्य.) कुछ सयुक्त पदों में 'अध' का आदि-पदिक रूप ।
 अधोगत—(सं. वि.) नीचे की ओर पहुँचा हुआ ।
 अधोगति—(सं. स्त्री.) निम्न गति, नरक-गमन, दुर्दशा, पतन, अवनति ।
 अधोगमन—(सं. पुं.) नीचे की ओर जाना, अवनति, पतन, दुर्दशा ।
 अधोगामी—(सं. वि.) नीचे को जानेवाला, नरकगामी ।
 अधोजानु—(सं. पुं.) जाँघ के नीचे का भाग ।
 अधोदृष्टि—(सं. स्त्री.) नीचे की ओर दृष्टि ।
 अधोदेश—(सं. पुं.) निचला भाग ।
 अधोभाग—(सं. पुं.) नीचे का भाग, योनि ।
 अधोभुवन—(सं. पुं.) पाताल, भूमि के नीचे का लोक ।
 अधोभूमि—(सं. स्त्री.) पहाड़ के नीचे की भूमि ।
 अधोमार्ग—(सं. पुं.) नीचे का मार्ग, सुरंग, गुदा ।

अधोमुख—(सं. वि.) मुख नीचा किये हुए, उलटा, आँधा; (पुं.) नरक के एक भाग का नाम।
 अधोयंत्र—(सं. पुं.) वक्यंत्र, अर्क खींचने का भ्रमका।
 अधोर्ध्व—(सं. अव्य.) ऊपर-नीचे।
 अधोलंब—(सं. पुं.) वह सीधी रेखा जो दूसरी रेखा से संलग्न होकर दोनों ओर के कोणों को बराबर बनाती है, लंब, माहुल, पानी की गहराई नापने का यंत्र।
 अधोलोक—(सं. पुं.) नीचे की दुनिया, पाताल।
 अधोवायु—(सं. पुं.) अपानवायु, गुदा से निकलनेवाली वायु, पाद।
 अधोविदु—(सं. पुं.) अदृश्य आकाश का वह स्थान जो हमारे पैर के ठीक नीचे होता है।
 अधौडी—(हिं. स्त्री.) मोटी खाल, किसी पशु के चमड़े का आधा भाग।
 अध्यक्ष—(सं. पुं.) सभापति, स्वामी, नायक, अधिष्ठाता, प्रधान, अधिकारी।
 अध्यक्षर—(सं. अव्य.) अक्षरशः, अक्षर-अक्षर।
 अध्ययन—(सं. पुं.) पठन, पढ़ाई-लिखाई।
 अध्ययनीय—(सं. वि.) पढ़ने योग्य।
 अध्यर्ध—(सं. वि.) एक और आधा, डेढ़, १½।
 अध्यवसान—(सं. पुं.) अभिप्राय, चेष्टा, उत्साह।
 अध्यवसाय—(सं. पुं.) उत्साह, निरन्तर उद्योग, दृढ़तापूर्वक किसी व्यापार में लगे रहना, निश्चय।
 अध्यवसायित—(सं. वि.) दृढ़ निश्चय किया हुआ।
 अध्यवसायी—(सं. वि.) निरन्तर उद्योग करनेवाला, उद्यमशील, उत्साही, निश्चयकारी।
 अध्यवसित—(सं. वि.) दृढ़ निश्चय किया हुआ, अनुमोदित।
 अध्यस्त—(सं. वि.) ऊपर रक्खा हुआ, छिपा हुआ, गुप्त, जो प्रत्यक्ष न हो।
 अध्यात्म—(सं. पुं.) परब्रह्म, परमेश्वर; (वि.) आत्मा या ब्रह्म संबंधी।
 अध्यात्म-ज्ञान—(सं. पुं.) ईश्वर अथवा आत्मा का ज्ञान।
 अध्यात्मदर्शी—(सं. वि.) परमात्मा को जाननेवाला।
 अध्यात्म-विद्या—(सं. स्त्री.), अध्यात्म-शास्त्र—(सं. पुं.) आत्मा-परमात्मा के स्वरूप, संबंध आदि का विवेचन करने वाला दर्शन।

अध्यात्मिक—(सं. वि.) अध्यात्म संबंधी।
 अध्यापक—(सं. पुं.) शिक्षक, गुरु, आचार्य।
 अध्यापकी—(हिं. स्त्री.) अध्यापक का कार्य, पढ़ाने-लिखाने का काम।
 अध्यापन—(सं. पुं.) पढ़ाने-लिखाने का कार्य।
 अध्यापिका—(सं. स्त्री.) पढ़ाने-लिखाने वाली स्त्री, गुरुआइन।
 अध्यापित—(सं. वि.) पढ़ाया-लिखाया हुआ।
 अध्याय—(सं. पुं.) ग्रंथ-विभाग, पाठ, सर्ग, अंक, परिच्छेद, प्रकरण, कांड, पर्व।
 अध्यायी—(हिं. वि.) पढ़नेवाला, पढ़ने-लिखने में लगा हुआ; (पुं.) विद्यार्थी।
 अध्यारूढ़—(सं. वि.) समारूढ़, सवार, हुआ, चढ़ा ऊंचा।
 अध्यारोप, अध्यारोपण—(सं. पुं.) चढ़ना, ऊपर पहुँचाना, मिथ्या कल्पना-दोष, आरोप।
 अध्यारोपित—(सं. वि.) मिथ्यारोपित, घोखे का, अशुद्ध समझा हुआ।
 अध्यास—(सं. पुं.) झूठा आरोप, मिथ्या ज्ञान।
 अध्यासन—(सं. पुं.) निवास, अधिष्ठान, चढ़ाव।
 अध्यासित—(सं. वि.) बैठाया हुआ, सभापति के आसन पर बैठा हुआ।
 अध्यासीन—(सं. वि.) उपविष्ट, बैठा हुआ।
 अध्याहार—(सं. पुं.) तर्क, वितर्क, असंपूर्ण वाक्य को पूर्ण करने के लिए कुछ शब्द जोड़ना, अस्पष्ट विषय को दूसरे शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट करना।
 अध्याहृत—(सं. वि.) तर्क किया हुआ।
 अध्यूढ़—(सं. वि.) अधिक, अतिशय, भरपूर।
 अध्यूढ़ा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसके रहते उसका पति दूसरा विवाह कर ले।
 अध्येतव्य, अध्येय—(सं. वि.) पाठ्य, पढ़ने योग्य।
 अध्रुव—(सं. वि.) अनिश्चित, चंचल, अलग करने योग्य, बिना ठीर का, अस्थिर।
 अध्वर—(सं. पुं.) यज्ञ, आकाश।
 अध्वर्ग—(सं. पुं.) यज्ञ करनेवाला, यजुर्वेदी, पुरोहित।
 अनंकुश—(सं. वि.) बिना नियंत्रण या वश का, निरंकुश, स्वेच्छाचारी।
 अनंग—(सं. पुं.) अंग का अभाव, कामदेव, आकाश, मन; (वि.) जिसे अंग न हो, अनंगी;—कौड़ा—(सं. स्त्री.) मानसिक रति या संभोग।
 अनंगक—(सं. पुं.) चित्त, मन, काम।
 अनंगारि—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

अनंगी—(सं. वि.) बिना अंग या शरीर का, अशरीरी; (पुं.) कामदेव।
 अनंत—(सं. वि.) जिसका अंत न हो, नांत, असीम; (पुं.) विष्णु, कृष्ण, शिव, रुद्र, शेषनाग, आकाश।
 अनंतगुण—(सं. वि.) जो अपार गुणों का भंडार हो।
 अनंत-चतुर्दशी—(सं. स्त्री.) भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, उसका व्रत, अनंत व्रत।
 अनंतता—(सं. स्त्री.), अनंतत्व—(सं. पुं.) अनंत होने की अवस्था या भाव, असीमता, अपारत्व।
 अनंतमूल—(सं. पुं.) एक रक्त-शोधक वनस्पति।
 अनंतर—(सं. अव्य.) बाद या पीछे, उपरांत, लगातार; (वि.) बिना अंतर का, लगातार।
 अनंतराशि—(सं. स्त्री.) अकूत राशि या परिमाण।
 अनंतशक्ति—(सं. वि.) सर्व-शक्तिमान्।
 अनंता—(सं. स्त्री.) पृथ्वी, पार्वती।
 अनंतात्मा—(सं. पुं.) परमात्मा।
 अनंत्य—(सं. वि.) जिसका अंत न हो।
 अनंद—(हिं. पुं.) देखें 'आनंद'।
 अनंदना—(हिं. क्रि. अं.) आनंदित होना।
 अनंदी—(हिं. वि.) देखें 'आनंदी'।
 अनंश—(सं. वि.) जिसका अंश या भाग न हो, अंशरहित, जिसका संपत्ति पर सत्त्व या हक न हो।
 अन—(हिं. अव्य.) बिना, बगैर; (आदि प्रत्य०) कुछ देशज संयुक्त पदों में यह आदिपद के रूप में वृषम्य, प्रतिकूलता, अभाव आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है; जैसे—अनगिनत, अनहोनी, अनदेखा आदि।
 अनअहिवात—(हिं. पुं.) वैधव्य, रंडापा।
 अनइस—(हिं. वि.) निकृष्ट, बुरा, अधम।
 अनइसी—(हिं. स्त्री.) बुरा समझना, रूठना।
 अनऋतु—(सं. स्त्री.) बुरा ऋतु, कुसमय।
 अनकना—(हिं. क्रि. स.) सुनना, छिपकर सुनना।
 अनकहा—(हिं. वि.) जो कहा न गया हो।
 अनक्षर—(सं. पुं.) निंदा, गाली; (वि.) मूर्ख, निरक्षर।
 अनख—(हिं. पुं.) क्रोध, ईर्ष्या, अन्याय, काजल की बिंदी जो बच्चों के मस्तक पर नजर न लगने के लिए लगा दी जाती है, डिठौना।
 अनखना—(हिं. क्रि. अ.) क्रोध करना, रूठना, रिसियाना।
 अनखाना—(हिं. क्रि. अ., स.) क्रोध दिखलाना, अप्रसन्न करना।

अनखाहट—(हि. स्त्री.) अप्रसन्नता, क्रोध ।
 अनखी—(हि. वि.) कोपान्वित, क्रोधी,
 शीघ्र कुपित होनेवाला ।
 अनखौंह—(हि. वि.) क्रोधपूर्ण, चिड़-
 चिड़ा, अनुचित, बुरा ।
 अनगढ़—(हि. वि.) विना गढ़ा हुआ,
 भद्दा, बेडौल, जो किसी का बनाया न
 हो, विना ओर-छोर का, स्वयंभू ।
 अनगन—(हि. वि.) अगणित, बहुत ।
 अनगना—(हि. वि.) विना गिना हुआ,
 अगणित ।
 अनगवना—(हि. क्रि. अ.) जान-झूझ-
 कर देर करना ।
 अनगाना—(हि. क्रि. स.) गिनवाना,
 सुघरवाना ।
 अनगिन, अनगिनत—(हि. वि.) अगणित,
 असंख्य ।
 अनगिना—(हि. वि.) विना गिना हुआ,
 असंख्य, अगणित ।
 अनगैरी—(हि. वि.) अपरिचित, विना
 जान-पहिचान का, पराया ।
 अनगन—(सं. वि.) जो नंगा न हो, वस्त्र
 पहिने हुए; -ता—(सं. स्त्री.) नंगा
 न होने की अवस्था ।
 अनघ—(सं. वि.) पापशून्य, निर्मल, शुद्ध,
 सुंदर, दुःखहीन, स्वच्छ ।
 अनघरी—(हि. स्त्री.) कुसमय, बुरा समय ।
 अनघरी—(हि. वि.) विना निमंत्रण का,
 विना बुलाया हुआ ।
 अनघोर—(हि. पुं.) अत्याचार, अंधेर ।
 अनचाहा—(हि. वि.) जिसकी चाह न
 हो, अनिच्छित ।
 अनचाहत—(हि. वि.) न चाहनेवाला,
 प्रेम न करनेवाला ।
 अनचौन्हा—(हि. वि.) अपरिचित, जिससे
 जान-पहिचान न हो ।
 अनच्छ—(सं. वि.) जो स्वच्छ न हो, मैला ।
 अनजान—(हि. वि.) अनभिज्ञ, अपरि-
 चित, अज्ञात; (पुं.) अनजान की अवस्था,
 जानकारी का अभाव ।
 अनजोखा—(हि. वि.) विना तौला हुआ ।
 अनट—(हि. पुं.) उपद्रव, अनीति, अत्याचार,
 बलवा ।
 अनडोठ—(हि. वि.) अदृष्ट, अदेखा, विना
 देखा हुआ ।
 अनत—(सं. वि.) जो झुका न हो, सीधा,
 खड़ा, अभिमानो; (हि. अव्य.) अन्यत्र,
 दूसरे किसी स्थान में ।
 अनति—(सं. वि.) अधिक नहीं, न्यून;
 (स्त्री.) अहंकार ।

अनतिक्रम, अनतिक्रमण—(सं. पुं.) सीमा
 से बाहर न जाना, अनुत्लंघन ।
 अनतिक्रमणीय—(सं. वि.) उल्लंघन न
 करने योग्य, अनुत्लंघनीय ।
 अनदेखा—(हि. वि.) अदृष्ट, जो देखा हुआ
 न हो ।
 अनद्यतन—(सं. वि.) जो आज का या
 आधुनिक न हों; -भविष्य—(पुं.)
 आगामी आधी रात के बाद का समय;
 -भूत—(पुं.) व्याकरण में अर्धरात्रि से
 पहिले का समय ।
 अनधिक—(सं. वि.) जो अधिक न हो ।
 अनधिकार—(सं. पुं.) अधिकार का न
 होना, अधिकारशून्यता, अयोग्यता;
 (वि.) अयोग्य, अधिकाररहित; -चर्चा—
 (स्त्री.) जिस विषय में अधिकार न हो
 उसमें हस्तक्षेप करना; -प्रवेश—(पुं.)
 विना अधिकारके किसी के घर में घुसना ।
 अनधिकारिता—(सं. स्त्री.) अधिकार का
 न होना ।
 अनधिकारी—(हि. वि.) विना अधिकार
 का, अधिकारहीन, जो पाने का अधिकारी
 न हो, अयोग्य ।
 अनधिकृत—(सं. वि.) जो अधिकृत न
 हो, जो अधिकार-प्राप्त न हो ।
 अनधिगत—(सं. वि.) अज्ञात, विना
 समझा-बूझा; -मनोरथ—(वि.) हताश ।
 अनधिगम्य—(सं. वि.) पहुँच के बाहर,
 प्राप्त न होने योग्य ।
 अनधीन—(सं. वि.) जो अधीन न हो ।
 अनध्ययन—(सं. पुं.) अध्ययन का अभाव,
 अनध्याय ।
 अनध्यवसाय—(सं. पुं.) अध्यवसाय का
 न होना, ढीलापन, शिथिलता, एक
 अलंकार जिसमें किसी एक वस्तु के
 विषय में असाधारण अनिश्चय दिख-
 लाया जाता है ।
 अनध्याय—(सं. पुं.) छुट्टी का दिन, जिस
 दिन पढ़ाई बंद हो, अनध्ययन ।
 अननुज्ञात—(सं. वि.) असम्मत, विना
 अनुज्ञा या आज्ञा का ।
 अननुभूत—(सं. वि.) जिसका अनुभव
 न किया गया हो, अज्ञात ।
 अननुमत—(सं. वि.) जिसे अनुमति या
 स्वीकृति न मिली हो ।
 अनन्नास—(हि. पुं.) एक फल जो खाने
 में खट-मीठा होता है ।
 अनन्य—(सं. वि.) दूसरे से संबंध न रखने-
 वाला, एक से अधिक नहीं, समूचा,
 सबसे अलग, स्वतंत्र; -आामी—(वि.)

दूसरे की ओर न जानेवाला; -चित्त—
 (वि.) अपना चित्त एक ही विषय में
 लगानेवाला; -ज—(वि.) कामदेव;
 -ता—(स्त्री.), -त्व—(पुं.) एकनिष्ठा,
 निरालापन, अनोखापन; -दृष्टि—(वि.)
 टकटकी लगाकर देखनेवाला; -पूर्वा—
 (स्त्री.) जिस स्त्री का किसी पुरुष से
 संसर्ग न हुआ हो, कुमारी, अविवाहिता;
 -भव—(वि.) आप से आप उत्पन्न
 होनेवाला; -भाव—(वि.) केवल ईश्वर
 में ध्यान लगानेवाला; -मनस्क—(वि.)
 अपना ध्यान निविष्ट या लीन रखने-
 वाला; -योग्य—(वि.) जो किसी दूसरे
 के उपयोग का या योग्य न हो;
 -वृत्ति—(वि.) जिसकी जीविका का
 उपाय एक ही हो दूसरा नहीं; -साधा-
 रण, -सामान्य—(वि.) सब से निराला;
 -हृत—(वि.) जिसको दूसरा न चुरा सके,
 सुरक्षित ।
 अनन्यार्थ—(सं. वि.) किसी दूसरे पदार्थ
 से संबंध न रखनेवाला, प्रधान ।
 अनन्याश्रित—(सं. वि.) जो दूसरे के
 आश्रित न हो, स्वतंत्र ।
 अनन्वय—(सं. पुं.) अन्वय या संबंध का
 अभाव, एक अलंकार जिसमें किसी
 वाक्य में एक ही वस्तु उपमान तथा
 उपमेय के रूप में बरसाई जाती है ।
 अनन्वित—(सं. वि.) अन्वयरहित, अतं-
 वद्ध, पृथक्, शून्य, अडंबड ।
 अनप—(सं. वि.) जल से शून्य ।
 अनपकार—(सं. पुं.) अपकार न करना,
 सीधापन, मोलापन ।
 अनपकारी—(हि. वि.) अपकार न करने-
 वाला, किसी का कुछ न बिगाड़नेवाला ।
 अनपकृत—(सं. वि.) जिसका अपकार
 न किया गया हो ।
 अनपच—(हि. पुं.) भोजन का न पचना
 अपच, अजीर्ण ।
 अनपड़—(हि. वि.) अशिक्षित, बेपह,
 निरक्षर, मूर्ख ।
 अनपत्य—(सं. वि.) जिसके लड़के-वाले
 न हों, सन्तानहीन ।
 अनपराध—(सं. वि.) जिसने अपराध
 न किया हो, निरपराध, निर्दोष;
 (पुं.) अपराध का अभाव, निर्दोषता ।
 अनपराधी—(हि. पुं.) निरपराध ।
 अनपहृत—(सं. वि.) अपहरण या चोरी
 न किया हुआ ।
 अनपायी—(सं. वि.) स्थिर, निश्चल ।
 अनपाश्रय—(सं. वि.) निर्द्वन्द्व, स्वाधीन ।

अधोमुख—(सं. वि.) मुख नीचा किये हुए, उल्टा, आँधा; (पुं.) नरक के एक भाग का नाम ।
 अधोयंत्र—(सं. पुं.) वक्रयंत्र, अर्क खींचने का भ्रमका ।
 अधोर्ध्व—(सं. अव्य.) ऊपर-नीचे ।
 अधोलंब—(सं. पुं.) वह सीधी रेखा जो दूसरी रेखा से संलग्न होकर दोनों ओर के कोणों को बराबर बनाती है, लंब, माहुल, पानी की गहराई नापने का यंत्र ।
 अधोलोक—(सं. पुं.) नीचे की दुनिया, पाताल ।
 अधोवायु—(सं. पुं.) अपानवायु, गुदा से निकलनेवाली वायु, पाद ।
 अधोविदु—(सं. पुं.) अदृश्य आकाश का वह स्थान जो हमारे पैर के ठीक नीचे होता है ।
 अधोड़ी—(हिं. स्त्री.) मोटी खाल, किसी पशु के चमड़े का आधा भाग ।
 अध्यक्ष—(सं. पुं.) सभापति, स्वामी, नायक, अविष्टाता, प्रवान, अधिकारी ।
 अध्यक्षर—(सं. अव्य.) अक्षरशः, अक्षर-अक्षर ।
 अध्ययन—(सं. पुं.) पठन, पढ़ाई-लिखाई ।
 अध्ययनीय—(सं. वि.) पढ़ने योग्य ।
 अध्यर्ध—(सं. वि.) एक और आधा, डेढ़, १½ ।
 अध्यवसान—(सं. पुं.) अभिप्राय, चेष्टा, उत्साह ।
 अध्यवसाय—(सं. पुं.) उत्साह, निरन्तर उद्योग, दृढ़तापूर्वक किसी व्यापार में लगे रहना, निश्चय ।
 अध्यवसायित—(सं. वि.) दृढ़ निश्चय किया हुआ ।
 अध्यवसायी—(सं. वि.) निरन्तर उद्योग करनेवाला, उद्यमशील, उत्साही, निश्चयकारी ।
 अध्यवसित—(सं. वि.) दृढ़ निश्चय किया हुआ, अनुमोदित ।
 अध्यस्त—(सं. वि.) ऊपर रक्खा हुआ, छिपा हुआ, गुप्त, जो प्रत्यक्ष न हो ।
 अध्यात्म—(सं. पुं.) परब्रह्म, परमेश्वर; (वि.) आत्मा या ब्रह्म संबंधी ।
 अध्यात्म-ज्ञान—(सं. पुं.) ईश्वर अथवा आत्मा का ज्ञान ।
 अध्यात्मदर्शी—(सं. वि.) परमात्मा को जाननेवाला ।
 अध्यात्म-विद्या—(सं. स्त्री.), अध्यात्म-शास्त्र—(सं. पुं.) आत्मा-परमात्मा के स्वरूप, संबंध आदि का विवेचन करने वाला दर्शन ।

अध्यात्मिक—(सं. वि.) अध्यात्म संबंधी ।
 अध्यापक—(सं. पुं.) शिक्षक, गुरु, आचार्य ।
 अध्यापकी—(हिं. स्त्री.) अध्यापक का कार्य, पढ़ाने-लिखाने का काम ।
 अध्यापन—(सं. पुं.) पढ़ाने-लिखाने का कार्य ।
 अध्यापिका—(सं. स्त्री.) पढ़ाने-लिखाने वाली स्त्री, गुरुआइन ।
 अध्यापित—(सं. वि.) पढ़ाया-लिखाया हुआ ।
 अध्याय—(सं. पुं.) ग्रंथ-विभाग, पाठ, सर्ग, अंक, परिच्छेद, प्रकरण, कांड, पर्व ।
 अध्यायी—(हिं. वि.) पढ़नेवाला, पढ़ने-लिखने में लगा हुआ; (पुं.) विद्यार्थी ।
 अध्यारूढ़—(सं. वि.) समारूढ़, सवार, हुआ, चढ़ा ऊँचा ।
 अध्यारोप, अध्यारोपण—(सं. पुं.) चढ़ना, ऊपर पहुँचना, मिथ्या कल्पना-दोष, आरोप ।
 अध्यारोपित—(सं. वि.) मिथ्यारोपित, घोखे का, अशुद्ध समझा हुआ ।
 अध्यास—(सं. पुं.) झूठा आरोप, मिथ्या ज्ञान ।
 अध्यासन—(सं. पुं.) निवास, अविष्टान, चढ़ाव ।
 अध्यासित—(सं. वि.) बैठाया हुआ, सभापति के आसन पर बैठा हुआ ।
 अध्यासीन—(सं. वि.) उपविष्ट, बैठा हुआ ।
 अध्याहार—(सं. पुं.) तर्क, वितर्क, असंपूर्ण वाक्य को पूर्ण करने के लिए कुछ शब्द जोड़ना, अस्पष्ट विषय को दूसरे शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट करना ।
 अध्याहृत—(सं. वि.) तर्क किया हुआ ।
 अध्यद्—(सं. वि.) अधिक, अतिशय, भरपूर ।
 अध्यद्वा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसके रहते उसका पति दूसरा विवाह कर ले ।
 अध्येतव्य, अध्येय—(सं. वि.) पाठ्य, पढ़ने योग्य ।
 अध्रुव—(सं. वि.) अनिश्चित, चंचल, अलग करने योग्य, विना ठौर का, अस्थिर ।
 अध्वर—(सं. पुं.) यज्ञ, आकाश ।
 अध्वरंग—(सं. पुं.) यज्ञ करनेवाला, यजुर्वेदी, पुरोहित ।
 अनंकुश—(सं. वि.) विना नियंत्रण या वश का, निरंकुश, स्वेच्छाचारी ।
 अनंग—(सं. पुं.) अंग का अभाव, कामदेव, आकाश, मन; (वि.) जिसे अंग न हो, अनंगी;—कीड़ा—(सं. स्त्री.) मानसिक रति या संभोग ।
 अनंगक—(सं. पुं.) चित्त, मन, काम ।
 अनंगारि—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

अनंगी—(सं. वि.) विना अंग या शरीर का, अशरीरी; (पुं.) कामदेव ।
 अनंत—(सं. वि.) जिसका अंत न हो, नांत, असीम; (पुं.) पिण्डु, कृष्ण, शिव, रुद्र, शेषनाग, आकाश ।
 अनंतगुण—(सं. वि.) जो अपार गुणों का भंडार हो ।
 अनंत-चतुर्दशी—(सं. स्त्री.) भाद्र शुक्ला चतुर्दशी, उसका व्रत, अनंत व्रत ।
 अनंतता—(सं. स्त्री.), अनंतत्व—(सं. पुं.) अनंत होने की अवस्था या भाव, असीमता, अपारत्व ।
 अनंतमूल—(सं. पुं.) एक रक्त-शोधक वनस्पति ।
 अनंतर—(सं. अव्य.) वाद या पीछे, उपरांत, लगातार; (वि.) विना अंतर का, लगातार ।
 अनंतराशि—(सं. स्त्री.) अकूत राशि या परिमाण ।
 अनंतशक्ति—(सं. वि.) सर्व-शक्तिमान् ।
 अनंता—(सं. स्त्री.) पृथ्वी, पार्वती ।
 अनंतात्मा—(सं. पुं.) परमात्मा ।
 अनंत्य—(सं. वि.) जिसका अंत न हो ।
 अनंद—(हिं. पुं.) देखें 'आनंद' ।
 अनंदना—(हिं. क्रि. अं.) आनंदित होना ।
 अनंदी—(हिं. वि.) देखें 'आनंदी' ।
 अनंश—(सं. वि.) जिसका अंश या भाग न हो, अंशरहित, जिसका संपत्ति पर सत्त्व या हक न हो ।
 अन—(हिं. अव्य.) विना, बगैर; (आदि प्रत्य०) कुछ देशज संयुक्त पदों में यह आदिपद के रूप में वषम्य, प्रतिकूलता, अभाव आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है; जैसे—अनगिनत, अनहोनी, अनदेखा आदि ।
 अनअहिवात—(हिं. पुं.) वैधव्य, रंडापा ।
 अनइस—(हिं. वि.) निकृष्ट, बुरा, अधम ।
 अनइसी—(हिं. स्त्री.) बुरा समझना, हठना ।
 अनऋतु—(सं. स्त्री.) बुरा ऋतु, कुसमय ।
 अनकना—(हिं. क्रि. स.) सुनना, छिपकर सुनना ।
 अनकहा—(हिं. वि.) जो कहा न गया हो ।
 अनक्षर—(सं. पुं.) निंदा, गाली; (वि.) मूर्ख, निरक्षर ।
 अनख—(हिं. पुं.) क्रोध, ईर्ष्या, अन्याय, काजल की बिंदी जो बच्चों के मस्तक पर नजर न लगने के लिए लगा दी जाती है, डिठौना ।
 अनखना—(हिं. क्रि. अ.) क्रोध करना, हठना, रिसियाना ।
 अनखाना—(हिं. क्रि. अ., स.) क्रोध दिखलाना, अप्रसन्न करना ।

अनखाहट—(हिं. स्त्री.) अप्रसन्नता, क्रोध ।
 अनखी—(हिं. वि.) कोपान्वित, क्रोधी,
 शीघ्र कुपित होनेवाला ।
 अनखौहो—(हिं. वि.) क्रोधपूर्ण, चिड़-
 चिड़ा, अनुचित, बुरा ।
 अनगढ़—(हिं. वि.) बिना गढ़ा हुआ,
 भद्दा, वेडौल, जो किसी का बनाया न
 हो, बिना ओर-छोर का, स्वयंभू ।
 अनगन—(हिं. वि.) अगणित, बहुत ।
 अनगना—(हिं. वि.) बिना गिना हुआ,
 अगणित ।
 अनगवना—(हिं. क्रि. अ.) जान-बूझ-
 कर देर करना ।
 अनगाना—(हिं. क्रि. स.) गिनवाना,
 सुघरवाना ।
 अनगिन, अनगिनत—(हिं. वि.) अगणित,
 असंख्य ।
 अनगिना—(हिं. वि.) बिना गिना हुआ,
 असंख्य, अगणित ।
 अनगैरी—(हिं. वि.) अपरिचित, बिना
 जान-पहिचान का, पराया ।
 अनगन—(सं. वि.) जो नंगा न हो, वस्त्र
 पहिने हुए; -ता—(सं. स्त्री.) नंगा
 न होने की अवस्था ।
 अनघ—(सं. वि.) पापशून्य, निर्मल, शुद्ध,
 सुंदर, दुःखहीन, स्वच्छ ।
 अनघरी—(हिं. स्त्री.) कुसमय, बुरा समय ।
 अनघरी—(हिं. वि.) बिना निमंत्रण का,
 बिना बुलाया हुआ ।
 अनघोर—(हिं. पुं.) अत्याचार, अंधेर ।
 अनचाहा—(हिं. वि.) जिसकी चाह न
 हो, अनिच्छित ।
 अनचाहत—(हिं. वि.) न चाहनेवाला,
 प्रेम न करनेवाला ।
 अनचीन्हा—(हिं. वि.) अपरिचित, जिससे
 जान-पहिचान न हो ।
 अनच्छ—(सं. वि.) जो स्वच्छ न हो, मैला ।
 अनजान—(हिं. वि.) अनभिज्ञ, अपरि-
 चित, अज्ञात; (पुं.) अनजान की अवस्था,
 जानकारी का अभाव ।
 अनजोखा—(हिं. वि.) बिना तौला हुआ ।
 अनट—(हिं. पुं.) उपद्रव, अनौत्ति, अत्याचार,
 बलवा ।
 अनडीठ—(हिं. वि.) अदृष्ट, अदेखा, बिना
 देखा हुआ ।
 अनत—(सं. वि.) जो झुका न हो, सीधा,
 खड़ा, अमिमानी; (हिं. अव्य.) अत्यत्र,
 दूसरे किसी स्थान में ।
 अनति—(सं. वि.) अधिक नहीं, न्यून;
 (स्त्री.) अहंकार ।

अनतिक्रम, अनतिक्रमण—(सं. पुं.) सीमा
 से बाहर न जाना, अनुल्लंघन ।
 अनतिक्रमणीय—(सं. वि.) उल्लंघन न
 करने योग्य, अनुल्लंघनीय ।
 अनदेखा—(हिं. वि.) अदृष्ट, जो देखा हुआ
 न हो ।
 अनघतन—(सं. वि.) जो आज का या
 आधुनिक न हों; -भविष्य—(पुं.)
 आगामी आधी रात के बाद का समय;
 -भूत—(पुं.) व्याकरण में अर्धरात्रि से
 पहिले का समय ।
 अनधिक—(सं. वि.) जो अधिक न हो ।
 अनधिकार—(सं. पुं.) अधिकार का न
 होना, अधिकारशून्यता, अयोग्यता;
 (वि.) अयोग्य, अधिकाररहित; -चर्चा—
 (स्त्री.) जिस विषय में अधिकार न हो
 उसमें हस्तक्षेप करना; -प्रवेश—(पुं.)
 बिना अधिकारके किसी के घर में घुसना ।
 अनधिकारिता—(सं. स्त्री.) अधिकार का
 न होना ।
 अनधिकारी—(हिं. वि.) बिना अधिकार
 का, अधिकारहीन, जो पाने का अधिकारी
 न हो, अयोग्य ।
 अनधिकृत—(सं. वि.) जो अधिकृत न
 हो, जो अधिकार-प्राप्त न हो ।
 अनधिगत—(सं. वि.) अज्ञात, बिना
 समझा-बूझा; -मनोरथ—(वि.) हताश ।
 अनधिगम्य—(सं. वि.) पहुँच के बाहर,
 प्राप्त न होने योग्य ।
 अनधीन—(सं. वि.) जो अधीन न हो ।
 अनध्ययन—(सं. पुं.) अध्ययन का अभाव,
 अनध्याय ।
 अनध्यवसाय—(सं. पुं.) अध्यवसाय का
 न होना, ढीलापन, शिथिलता, एक
 अलंकार जिसमें किसी एक वस्तु के
 विषय में असाधारण अनिश्चय दिख-
 लाया जाता है ।
 अनध्याय—(सं. पुं.) छुट्टी का दिन, जिस
 दिन पढ़ाई बंद हो, अनध्ययन ।
 अननुज्ञात—(सं. वि.) असम्मत, बिना
 अनुज्ञा या आज्ञा का ।
 अननुभूत—(सं. वि.) जिसका अनुभव
 न किया गया हो, अज्ञात ।
 अननुमत—(सं. वि.) जिसे अनुमति या
 स्वीकृति न मिली हो ।
 अनश्रास—(हिं. पुं.) एक फल जो खाने
 में खट-मीठा होता है ।
 अनन्य—(सं. वि.) दूसरे से संबंध न रखने-
 वाला, एक से अधिक नहीं, समूचा,
 सबसे अलग, स्वतंत्र; -गामी—(वि.)

दूसरे की ओर न जानेवाला; -चित्त—
 (वि.) अपना चित्त एक ही विषय में
 लगानेवाला; -ज—(वि.) कामदेव;
 -ता—(स्त्री.), -त्व—(पुं.) एकनिष्ठा,
 निरालापन, अनोखापन; -दृष्टि—(वि.)
 टकटकी लगाकर देखनेवाला; -पूर्वा—
 (स्त्री.) जिस स्त्री का किसी पुरुष से
 संसर्ग न हुआ हो, कुमारी, अविवाहिता;
 -भ्रज—(वि.) आप से आप उत्पन्न
 होनेवाला; -भाव—(वि.) केवल ईश्वर
 में ध्यान लगानेवाला; -मनस्क—(वि.)
 अपना ध्यान निविष्ट या लीन रखने-
 वाला; -योग्य—(वि.) जो किसी दूसरे
 के उपयोग का या योग्य न हो;
 -वृत्ति—(वि.) जिसकी जीविका का
 उपाय एक ही हो दूसरा नहीं; -साधा-
 रण, -सामान्य—(वि.) सब से निराला;
 -हृत—(वि.) जिसको दूसरा न चुरा सके,
 सुरक्षित ।
 अनन्यार्थ—(सं. वि.) किसी दूसरे पदार्थ
 से संबंध न रखनेवाला, प्रधान ।
 अनन्याश्रित—(सं. वि.) जो दूसरे के
 आश्रित न हो, स्वतंत्र ।
 अनन्वय—(सं. पुं.) अन्वय या संबंध का
 अभाव, एक अलंकार जिसमें किसी
 वाक्य में एक ही वस्तु उपमान तथा
 उपमेय के रूप में बरसाई जाती है ।
 अनन्वित—(सं. वि.) अन्वयरहित, असं-
 वद्ध, पृथक्, शून्य, अंडबंड ।
 अनप—(सं. वि.) जल से शून्य ।
 अनपकार—(सं. पुं.) अपकार न करना,
 सीधापन, भोलापन ।
 अनपकारी—(हिं. वि.) अपकार न करने-
 वाला, किसी का कुछ न बिगाड़नेवाला ।
 अनपकृत—(सं. वि.) जिसका अपकार
 न किया गया हो ।
 अनपच—(हिं. पुं.) भोजन का न पचना
 अपच, अजीर्ण ।
 अनपढ़—(हिं. वि.) अनिश्चित, वेपथ,
 निरक्षर, मूर्ख ।
 अनपत्य—(सं. वि.) जिसके लड़के-बाले
 न हों, सन्तानहीन ।
 अनपराध—(सं. वि.) जिसने अपराध
 न किया हो, निरपराध, निर्दोष;
 (पुं.) अपराध का अभाव, निर्दोषता ।
 अनपराधी—(हिं. पुं.) निरपराध ।
 अनपहृत—(सं. वि.) अपहरण या चोरी
 न किया हुआ ।
 अनपायी—(सं. वि.) स्थिर, निष्कल ।
 अनपाश्रय—(सं. वि.) निद्वन्द्व, स्वाधीन ।

अनपेक्ष—(सं. वि.) अपेक्षा न करने-
वाला, पक्षपात-रहित; -त्व—(पुं.)
पक्षपातग्रन्थता।
अनपेक्षा—(सं. स्त्री.) देखें 'अनपेक्षत्व'।
अनपेक्षित—(सं. वि.) जिसकी अपेक्षा,
चाह या परवाह न हो, ध्यान न दिया
हुआ, उपेक्षित।
अनपेक्ष्य—(सं. वि.) किसी की अपेक्षा
न करनेवाला।
अनवन—(हिं. स्त्री.) विरोध, झगड़ा,
द्रोह, झंझट, विगाड़; (वि.) विविध,
भिन्न, पृथक्, अलग।
अनविधा, अनवेध—(हिं. वि.) विना
बधा या छेद किया हुआ।
अनवृद्ध—(हिं. वि.) जिसे वृद्ध या समझ
न हो, अवृद्ध।
अनबोल—(हिं. वि.) न बोलनेवाला,
मौन, चुप्पा, गुंगा, अपना सुख-दुःख
किसी से न कहनेवाला।
अनबोलत, अनबोला—(हिं. वि.) न
बोलनेवाला, गुंगा, अनबोल।
अनव्याहा—(हिं. वि.) अविवाहित, कुंवारा।
अनभल—(हिं. पुं.) बुराई, अहित, हानि;
(मुहा.)—ताकना—किसी का अहित या
अमंगल चाहना।
अनभला—(हिं. वि.) जो भला न हो, बुरा।
अनभाया, अनभावता—(हिं. वि.) अ-
प्रिय, जो अच्छा न लगे।
अनभिग्रह—(सं. पुं.) जो अभिग्रह या
भेद-भाव से रहित हो; (पुं.) भेद-भाव
का अभाव।
अनभिज्ञ—(सं. वि.) जो अभिज्ञ या जानकार
न हो, अपरिचित, ज्ञानशून्य, मूर्ख, अज्ञ;
—ता—(स्त्री.) अज्ञता, मूर्खता।
अनभिपय—(सं. वि.) जो कहा न जा सके।
अनभिप्रेत—(सं. वि.) जो अभिप्रेत, उद्दिष्ट
या इच्छित न हो।
अनभिभव—(सं. पुं.) जीत का न होना,
पराजय, हार।
अनभिभूत—(सं. वि.) जो अभिभूत या
व्याकुल न हुआ हो, न हराया हुआ।
अनभिमत—(सं. वि.) जो अभिमत
व्यथा सम्मत न हो, असम्मत।
अनभिरुच्य—(सं. वि.) कुरूप, बेडौल, भद्दा।
अनभिलाष—(सं. पुं.) अभिलाषा का न
होना, अरुचि; (वि.) अनभिलाषी।
अनभिलाषी—(हिं. वि.) बांछा या
इच्छा न रखनेवाला, इच्छारहित।
अनभिवाद्य—(सं. वि.) जो अभिवादन
या अम्यर्थता के योग्य न हो।

अनभिव्यक्त—(सं. वि.) जो स्पष्ट न
हो, गुप्त, छिपा हुआ।
अनभिसंधान—(सं. पुं.) प्रयोजन-विहीनता।
अनभिसंधि—(सं. स्त्री.) अभिसंधि अथवा
आपराधिक कुचक्र का अभाव।
अनभिहित—(सं. वि.) न कहा हुआ,
अकथित, विना वचन का।
अनभीष्ट—(सं. वि.) जो अभीष्ट या
इच्छित न हो, अवांछित।
अनभो—(हिं. पुं.) आश्चर्य, अचंभा,
अनहोनी घटना; (वि.) अद्भुत, विचित्र,
विलक्षण।
अनभोगा—(हिं. वि.) जिसका उपभोग
न किया गया हो।
अनभोरी—(हिं. स्त्री.) कपट, छल, मुलावा।
अनभ्यसित, अनभ्यस्त—(सं. वि.) अभ्यास
न किया हुआ, जिसे अभ्यास न हो।
अनभ्यास—(सं. पुं.) अभ्यास का अभाव,
टेव न पड़ना।
अनभ्यासी—(हिं. वि.) जिसको अभ्यास
न हो, अनभ्यस्त।
अनभ्र—(सं. वि.) मेघरहित, विना बादल
का, अमेघ।
अनमन, अनमना—(हिं. वि.) अन्यमनस्क,
जिसका चित्त न लगता हो, खिन्न,
उदास, अस्वस्थ, रोगी।
अनमनापन—(हिं. पुं.) अन्यमनस्क मुद्रा,
उदासीनता, अस्वस्थता।
अनमांगा—(हिं. वि.) विना मांगा हुआ,
अयाचित।
अननापा—(हिं. वि.) विना नापा हुआ।
अनमारग—(हिं. पुं.) कुमार्ग, दुराचार।
अनमिल, अनमिलत—(हिं. वि.) वे-
मेल, संवंधरहित, असंबद्ध, पृथक्, अलग।
अनमिलता—(हिं. वि.) न मिलनेवाला,
अनमेल, अलभ्य।
अनमोलना—(हिं. क्रि., स.) आँख उधारना,
देखना।
अनमेल—(हिं. वि.) विना मिलावट का,
विशुद्ध, असंबद्ध, बेजोड़।
अनमोल—(हिं. वि.) अमूल्य, मूल्यवान्,
बड़े दाम का, अत्युत्तम, सुंदर।
अनभ्र—(सं. वि.) जिसमें नभ्रता न
हो, उदंड।
अनय—(सं. पुं.) अन्याय, अनीति,
अत्याचार, अशुभ दुर्घटना, व्यसन।
अनयन—(सं. वि.) विना नेत्र का,
चक्षुहीन, अंधा।
अनरना—(हिं. क्रि., स.) अनादर करना,
अपमान दिखलाना।

अनरस—(हिं. पुं.) रसहीनता, रुखाई,
वैर, दुःख, कष्ट, मनमोटाव, कोप,
शुष्कता, काव्य जिसमें कोई प्रधान रस
न दरसाया गया हो।
अनरसा—(हिं. वि.) वैचैन, रुग्णा;
(पुं.) चावल की बनी एक प्रकार की
मिठाई, अंदरसा।
अनरीति—(हिं. स्त्री.) बुरी चाल, कुरीति,
अनैतिक व्यवहार।
अनर्क-चतुर्दशी—(सं. स्त्री.) कार्तिक कृष्ण
चतुर्दशी जो हनुमानजी का जन्म-
दिवस माना जाता है। इस दिन हनु-
मानजी का पूजन होता है।
अनर्गल—(सं. वि.) प्रतिबंध-रहित, विना
रोक-टोक का, निरंतर, व्यर्थ, अस्त-
व्यस्त;—प्रलाप—(पुं.) व्यर्थ वक्ताव।
अनर्घ—(सं. वि.) बहुमूल्य, कम मूल्य का।
अनर्घ्य—(सं. वि.) अपूज्य, अमूल्य, बहु-
मूल्य, कीमती।
अनर्घ्यत्व—(सं. पुं.) अमूल्यता, बहु-
मूल्यता, अपूज्यता।
अनर्थ—(सं. पुं.) उलटा अर्थ, अनिष्ट,
प्रतिकूलता, कार्यहानि, आपत्ति, मूल्य
का अभाव, बेकाम वस्तु; (वि.) अर्थहीन,
घनहीन, निकम्मा।
अनर्थक—(सं. वि.) अर्थशून्य, निरर्थक,
व्यर्थ, निष्प्रयोजन, हानिकारक, अनिष्ट
करनेवाला।
अनर्थकारी—(हिं. वि.) उलटा अर्थ
निकालनेवाला, हानिकारक, अनिष्ट-
कारी, उपद्रव करनेवाला।
अनर्थत्व—(सं. पुं.) बुराई, ईर्ष्या, द्वेष।
अनर्थदर्शी—(हिं. वि.) निरर्थक विषय
पर विचार करनेवाला।
अनर्थनाशी—(सं. पुं.) अनर्थ का नाश
करनेवाले शिव।
अनर्थबुद्धि—(सं. वि.) उलटी बुद्धिवाला।
अनर्थभाव—(सं. पुं.) ईर्ष्या, द्वेष।
अनर्ह—(सं. वि.) अनुपयुक्त, अयोग्य।
अनल—(सं. पुं.) अग्नि, वायु, रकार
अक्षर, पाचन शक्ति, जटराग्नि, तीन
की संख्या;—चूर्ण—(पुं.) वारुद;
—दीपन—(वि.) पाचन-शक्ति बढ़ाने-
वाली (औषधि);—पक्ष—(पुं.) एक
काल्पनिक चिड़िया जो सर्वदा आकाश में
उड़ा करती है और वहीं अंडा भी देती
है जो गिरने से फूट जाता है और बच्चा
निकल आता है;—प्रभा-
(स्त्री.) रतनजोत नाम की लाल रंग
की लकड़ी;—भुल—(पुं.) देवता,

ब्राह्मण; -शिला-(स्त्री.) अग्निमय पत्थर जो आकाश से गिरते हैं। ये उल्कापात से भिन्न होते हैं।
 अनलस-(सं. वि.) आलस्य-रहित, चंचल।
 अनला-(सं. स्त्री.) दक्ष प्रजापति की एक कन्या जो कश्यप ऋषि को व्याही थी।
 अनल्प-(सं. वि.) प्रचुर, अविक।
 अनवकाश-(सं. पुं.) अवकाश न होना।
 अनवगत-(सं. वि.) अज्ञात, न जाना हुआ।
 अनवगाह-(सं. वि.) बहुत गहरा, अथाह।
 अनवगाहिता-(सं. स्त्री.) बड़ी गहराई।
 अनवगीत-(सं. वि.) अनिदित।
 अनवच्छिन्न-(सं. वि.) जो अलग न हो, संयुक्त, जुटा हुआ, अखंडित, व्याख्यारहित।
 अनवट-(हिं. पुं.) चाँदी का छल्ला जिसको स्त्रियाँ पैर के अँगूठों में पहिन्ती हैं, कोल्हू के ढैल की आँखों पर बाँधने का ढपना।
 अनवद्य-(सं. वि.) निन्दारहित, दोष-शून्य; -ता-(स्त्री.) निर्दोषता; -त्व-(पुं.) अनवद्यता।
 अनवधान-(सं. पुं.) असावधानी, अमनोयोग, प्रमाद, बाबलापन; (वि.) असावधान, अमनोयोगी।
 अनवधानता-(सं. स्त्री.) प्रमाद, पागलपन, अमनोयोग।
 अनवधि-(सं. वि.) असीम; (अव्य.) सर्वदा।
 अनवर-(सं. वि.) जो अवर न हो, श्रेष्ठ, सम्य, शिष्ट।
 अनवरत-(सं. वि.) निरंतर, सतत; (अव्य.) सर्वदा।
 अनवलंब-(सं. वि.) निराश्रय, बिना सहारे का।
 अनवलंबन-(सं. पुं.) आश्रय का न रहना।
 अनवलंबित-(सं. वि.) वे-सहारा, आश्रयहीन।
 अनवसर-(सं. पुं.) अवसर या अवकाश का अभाव, कुसमय।
 अनवसान-(सं. वि.) जिसका अवसान या अंत न हो, अनंत।
 अनवसित-(सं. वि.) असमाप्त, अवूरा।
 अनवस्था-(सं. स्त्री.) स्थिति का अभाव, अव्यवस्था, अवीरता, चंचलता, चपलता, आतुरता, एक तर्क-दोष।
 अनवस्थित-(सं. वि.) अस्थिर, चंचल, अवांत, निरवलंब, आधार-रहित।
 अनवस्थितत्व-(सं. पुं.) चंचलता।
 अनवस्थिति-(सं. स्त्री.) अवैर्य, चंचलता, बलबुलापन, चित्त का स्थिर न रहना।

अनवांसना-(हिं. क्रि. स्त.) किसी नये पात्र को पहिले-पहिल काम में लाना, अवांसना।
 अनवांसा-(हिं. वि.) पहिले-पहिल काम में लाया हुआ (पात्र); (पुं.) कटी हुई उपज का बोधा हुआ बोझ।
 अनवांसी-(हिं. स्त्री.) विस्वांसी का बीसवाँ भाग, विस्वे का ४००वाँ भाग।
 अनवाद-(हिं. पुं.) दुरा शब्द, कटुवचन।
 अनवाप्त-(सं. वि.) अप्राप्त, जो मिला न हो।
 अनवाप्ति-(सं. स्त्री.) अप्राप्ति।
 अनवाय, अनवयव-(सं. वि.) निराकार, निरवयव।
 अनशन-(सं. पुं.) उपवास, लंघन, अन्न-त्याग, निराहार रहने का व्रत।
 अनश्रु-(सं. वि.) जिसके आँसू न आते हों।
 अनश्वर-(सं. वि.) नष्ट न होनेवाला, स्थायी, स्थिर, अटल, सर्वदा बना रहनेवाला।
 अनष्ट-(सं. वि.) नष्ट न किया हुआ, अभंग, अखंडित, न टूटा हुआ।
 अनसखरी-(हिं. स्त्री.) पक्का भोजन।
 अनसमज्ञा-(हिं. वि.) न समझा हुआ, जो समझ में न आया हो, अज्ञान, नासमझ।
 अनसहत-(हिं. वि.) असह्य, न सहने योग्य, जो सहन न कर सके।
 अनसाना-(हिं. क्रि., अ.) बुरा मानना, चिढ़ना।
 अनसुना-(हिं. वि.) बिना सुना हुआ, अश्रुत।
 अनसुनी-(हिं. वि., स्त्री.) जो सुनी न गई हो; (मुहा.) - करना -बहटियाना, आनाकानी करना।
 अनसूयक-(सं. वि.) दूसरे के उत्कर्ष पर ईर्ष्या न करनेवाला।
 अनसूया-(सं. स्त्री.) ईर्ष्या का अभाव, डाह न करना, शकुंतला की सखी तथा अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम।
 अनस्तमित-(सं. वि.) जो अस्त न हुआ हो, जो डूब न गया हो।
 अनहंकार-(सं. वि.) अहंकार-शून्य, बिना घमंड का।
 अनहंकारी-(सं. वि.) गर्वशून्य, जो घमंड न करता हो।
 अनह्वनाद-(हिं. पुं.) हाथ के अँगूठों से दोनों कानों को बंद करने पर ध्यान लगाने से जो ध्वनि सुन पड़ती है, अनाहत नाद।
 अनहित-(हिं. पुं.) बुराई, विगाड़, अपकार; (वि.) अहित करनेवाला।

अनहित-(हिं. वि.) हित न चाहनेवाला।
 अनहोता-(हिं. वि.) न होनेवाला, अलौकिक, रिक्त, निर्धन, दरिद्र।
 अनहोनी-(हिं. स्त्री.) न होनेवाली दात; (वि. स्त्री.) अद्भुत, असंगम।
 अनाकानी-(हिं. स्त्री.) जान-बूझकर टालना, बहाना, आनाकानी।
 अनाकार-(सं. वि.) बिना आकार का, निराकार, अवयवहीन।
 अनाकाल-(सं. पुं.) दुर्भिक्ष, अकाल।
 अनाकाश-(सं. वि.) आकाशरहित।
 अनाकुल-(हिं. वि.) न धवड़ाया हुआ, अव्यग्र, एकाग्र।
 अनाकृत-(सं. वि.) आक्रमण न किया हुआ।
 अनागत-(सं. वि.) न आया हुआ, न होनेवाला, भावी, अविदित, अप्राप्त, अज्ञात, अपरिचित, अपूर्व, अनादि; (अव्य.) अचानक।
 अनागम-(सं. पुं.) आगम का अभाव, अप्राप्ति।
 अनागम्य-(सं. वि.) न पहुँचने योग्य, दुर्गम।
 अनाचरण, अनाचार-(सं. पुं.) बुरा या असद् आचरण, कुरीति, धर्मनिषिद्ध कार्य या आचरण, बुरी प्रथा।
 अनाचारिता-(हिं. स्त्री.) कुचाल, कुरीति।
 अनाचारी-(हिं. वि.) कुकर्मी, बुराचारी।
 अनाज-(हिं. पुं.) अन्न, धान्य, खाद्यान्न।
 अनाज्ञाकारिता-(सं. स्त्री.) अनाज्ञाकारी का भाव या आचरण।
 अनाज्ञाकारी-(सं. वि.) आज्ञा न माननेवाला।
 अनाड़ी-(हिं. वि.) अज्ञानी, असम्य, मूर्ख।
 अनाद्य-(सं. वि.) धनहीन, दरिद्र।
 अनातप-(सं. पुं.) आतप या गर्मी न होना, शीतलता।
 अनातुर-(सं. वि.) जो आतुर न हो, स्वस्थ, आरोग्य।
 अनात्म-(सं. वि.) आत्मा से भिन्न, जड़, अचेतन।
 अनात्मज्ञ-(सं. वि.) आत्मा को न जाननेवाला, अज्ञान।
 अनाथ-(सं. वि.) प्रभुहीन, जिसकी रक्षा करनेवाला कोई न हो, अशरण, असहाय, बिना माँ-बाप का, दीन; (पुं.) वह बच्चा जिसके माँ-बाप मर गये हों, यतीम।
 अनायास्य, अनायास्य-(सं. पुं.) दीन-दुखियों को रखने का स्थान, गिह-हीन बच्चों की रक्षा का स्थान।
 अनादर-(सं. पुं.) अपमान, अवज्ञा, तिरस्कार, अप्रतिष्ठा, एक अलंकार

जिसमें किसी प्राप्त वस्तु का अनादर वैसी ही किसी दूसरी वस्तु से किया जाता है।
अनादरणीय-(सं. वि.) अनादर करने योग्य, निन्द्य।
अनादरित-(सं. वि.) अपमान किया हुआ।
अनादि-(सं. वि.) जिसका आदि न हो; (पुं.) ब्रह्म, परमेश्वर।
अनादित्व-(सं. पुं.) अनादि होने का भाव, गुण या स्थिति, नित्यता।
अनादिष्ट-(सं. वि.) आज्ञा या आदेश न दिया हुआ।
अनादृत-(सं. वि.) आदर न किया हुआ, तिरस्कृत, अपमानित।
अनादेय-(सं. वि.) ग्रहण न करने योग्य, अग्राह्य।
अनाधार-(सं. वि.) बिना आधार का।
अनाना-(हिं. क्रि. स.) भँगाना।
अनापद्-(सं. स्त्री.) आपत्ति का अभाव।
अनापन्न-(सं. वि.) न पाया हुआ, अप्राप्त।
अनाप-शानाप-(हिं. पुं.) निरर्थक वार्ता, बकझक; (अव्य.) ऊटपटांग।
अनापा-(हिं. वि.) बिना नापा या तौला हुआ, असीम।
अनाप्त-(सं. वि.) अप्राप्त, न मिला हुआ, अयोग्य, आत्मीय से भिन्न, बिना ठौर-ठिकाने का, असत्य; (पुं.) अपरिचित व्यक्ति, अनजान मनुष्य।
अनाप्ति-(सं. स्त्री.) प्राप्ति का अभाव।
अनाप्य-(सं. वि.) प्राप्त न करने योग्य।
अनाम-(सं. वि.) बिना नाम का, अविख्यात; (पुं.) मलमास।
अनामक-(सं. वि.) अप्रसिद्ध, बेनाम; (पुं.) अधिक मास।
अनामत्व-(सं. पुं.) अप्रसिद्धि।
अनामय-(सं. वि.) स्वस्थ, निरोग, रोगरहित, आरोग्य; (पुं.) शिव, महादेव।
अनामा, अनामिका-(सं. स्त्री.) मध्यमा (बिचली) और कनिष्ठिका (कानी) के बीच की अँगुली।
अनामिष-(सं. वि.) निरामिष, मांसरहित, निरर्थक।
अनायक-(सं. वि.) बिना नायक या सरदार का, नायकहीन।
अनायत-(सं. वि.) न फैला हुआ, अदूर, समीप का, प्रचलित।
अनायत्त-(सं. वि.) जो वश में न हो, अनधीन।
अनायास-(सं. वि.) बिना क्लेश या परिश्रम का; (अव्य.) सरलता से, सहज में।
अनायुध-(सं. वि.) बिना अस्त्र-शस्त्र का।

अनारी-(हिं. वि.) अनार के रंग का, लाल रंग का, अनाड़ी; (स्त्री.) मूर्ख, एक प्रकार की मिठाई।
अनारोग्य-(सं. पुं.) आरोग्य का अभाव।
अनार्जव-(सं. वि.) कुटिल, टेढ़ा-मेढ़ा।
अनार्तव-(सं. वि.) जिस स्त्री को मासिक धर्म न होता हो, बिना ऋतु का।
अनार्थ-(सं. वि.) जो आर्थ न हो, अप्रधान, म्लेच्छ, असच्चरित्र, दुष्ट, असाधु।
अनार्थज-(सं. वि.) वह जो अनार्थ देश में उत्पन्न हो।
अनार्थता-(सं. स्त्री.), **अनार्थत्व-**(सं. पुं.) दुष्टता, नीचता।
अनालंबी-(सं. स्त्री.) शिव की वीणा का नाम।
अनालाप-(सं. वि.) मौन रहनेवाला।
अनालोचित-(सं. वि.) बिना आलोचना का, बिना देखा हुआ, बिना समझा-बूझा।
अनावर्षण-(सं. पुं.) वृष्टि का न होना।
अनावश्यक-(सं. वि.) जिसकी आवश्यकता न हो, बिना प्रयोजन का, आवश्यकता-रहित।
अनावश्यकता-(सं. स्त्री.) आवश्यकता या प्रयोजन का अभाव।
अनाविद्ध-(सं. वि.) चोट न खाया हुआ, बिना वेधा हुआ।
अनावृत-(सं. वि.) न ढँपा हुआ, खुला हुआ।
अनावृत्त-(सं. वि.) पीछे न फिरनेवाला, जो दोहराया न गया हो।
अनावृत्ति-(सं. स्त्री.) आवृत्ति का अभाव, मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष।
अनावृष्टि-(सं. स्त्री.) वृष्टि का अभाव, सूखा पड़ना, अवर्षण।
अनावेदित-(सं. वि.) प्रकट न किया हुआ, अविज्ञप्त।
अनाना-(सं. वि.) नाशशून्य, आशरहित।
अनाशस्त-(सं. वि.) प्रशंसारहित।
अनाशा-(सं. स्त्री.) निराशा।
अनाशी-(हिं. वि.) नाशहीन, न मिटनेवाला।
अनाशु-(सं. वि.) विलंबी, मंद।
अनाश्रमी-(सं. वि.) गृहस्थाश्रम आदि चारों आश्रमों में से किसी से संबंध न रखनेवाला, आश्रमहीन।
अनाश्रय-(सं. वि.) आश्रयरहित, निरवलंब, निराश्रय, बिना सहारे का, असहाय, दीन।
अनाश्रित-(सं. वि.) आश्रयहीन, निरवलंब, बिना सहारे का।
अनासक्त-(सं. वि.) जो आसक्त न हो, आसक्तिरहित।

अनासक्ति-(सं. स्त्री.) आसक्ति का अभाव, निस्पृहा।
अनासाद्य-(सं. वि.) अप्राप्त, न मिला हुआ, प्राप्त न किया हुआ।
अनासिक्-(सं. वि.) बिना नाक का, नककटा, नकटा।
अनास्था-(सं. स्त्री.) अपमान, अनादर, भक्तिहीनता, अश्रद्धा, निश्चेष्टता।
अनास्वाद-(सं. पुं.) स्वाद का अभाव, स्वादहीनता।
अनास्वादित-(सं. वि.) स्वाद न लिया हुआ, बिना चखा हुआ।
अनाह-(सं. पुं.) मल-मूत्र रुकने से पेट का फूल जाना।
अनाहत-(सं. वि.) चोट न लगा हुआ; (पुं.) हठयोग के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में स्थित हृदय का पद्म; -नाद - (पुं.) वह शब्द जो दोनों कानों को अँगूठों से बंद करने पर सुनाई देता है।
अनाहार-(सं. पुं.) अनशन, उपवास, भोजन का अभाव; (वि.) भोजन न किया हुआ, निराहार।
अनाहारी-(हिं. वि.) उपवास करनेवाला।
अनाहार्य-(सं. वि.) भोजन के अयोग्य, अमोज्य।
अनाहृत-(सं. वि.) बिना बुलाया हुआ, निमंत्रण न दिया हुआ।
अनाह्लाद-(सं. वि.) अप्रसन्न, उदास।
अनिकेत-(सं. वि.) गृहहीन, बिना घर का; (पुं.) संन्यासी।
अनिग्रह-(सं. वि.) बिना निग्रह या रूकावट का, अनियंत्रित।
अनिच्छ-(सं. वि.) इच्छारहित, तृप्त।
अनिच्छा-(सं. स्त्री.) इच्छा का अभाव, अनभिलाषा, अरुचि।
अनिच्छित-(सं. वि.) इच्छा न किया हुआ, अनचाहा।
अनिच्छु, अनिच्छुक-(सं. वि.) इच्छा या चाह न रखनेवाला।
अनित-(हिं. वि.) अनित्य।
अनित्य-(सं. वि.) सदा न रहनेवाला, अदृढ़, अनिश्चित, नश्वर, अनियमित, क्षणभंगुर।
अनित्यता-(सं. स्त्री.), **अनित्यत्व-**(सं. पुं.) चंचलता, अस्थिरता, नश्वरता।
अनिदान-(सं. वि.) कारणशून्य।
अनिद्र-(सं. वि.) निद्रारहित, जिसको नींद न आती हो।
अनिद्रा-(सं. स्त्री.) निद्रा का अभाव, जागरण, नींद न आने का रोग।

अनिद्वित-(सं. वि.) न सोया हुआ, जागृत ।
 अनिप-(हिं. पुं.) सेनापति, सेनानायक ।
 अनिपात-(सं. वि., पुं.) निपात या पतन से परे, अपतन ।
 अनिपुण-(सं. वि.) अविज्ञ, अपटु, मूर्ख ।
 अनिवद्ध-(सं. वि.) न बंधा हुआ, असंबद्ध ।
 अनिभूत-(सं. वि.) जो निभूत या छिपा हुआ न हो ।
 अनिमंत्रित-(सं. वि.) निमंत्रण न दिया हुआ, न्योता न दिया हुआ ।
 अनिमा-(हिं. स्त्री.) देखें 'अणिमा' ।
 अनिमित्त-(सं. वि.) अकारण, अहेतुक; (अव्य.) बिना कारण, झूठ-मूठ ।
 अनिमित्तक-(सं. वि.) बिना कारण का, अहेतुक ।
 अनिमिष-(सं. पुं.) देवता, मछली, विष्णु; (वि.) आंख न झपकानेवाला, जिसकी पलक न गिरे; (अव्य.) एक टक, पलक न गिराकर ।
 अनिमेष-(सं. पुं., वि., अव्य.) देखें 'अनिमिष' ।
 अनियंत्रित-(सं. वि.) अनियत, प्रतिबन्ध-हीन, अनिवारित, उच्छृंखल, मनमाना; -शासन-(पुं.) एकत्र या निरंकुश शासन ।
 अनियत-(सं. वि.) अनित्य, अस्थायी, असीम, अनिश्चित ।
 अनियम-(सं. पुं.) नियम का अभाव, अव्यवस्था, शंका, अनिश्चय, दुराचार ।
 अनियमित-(सं. वि.) नियमहीन, अव्यवस्थित, अनिश्चित ।
 अनियारा-(हिं. वि.) धारदार, तीक्ष्ण, तीखी धारवाला ।
 अनियुक्त-(सं. वि.) जो नियुक्त न हो, किसी काम में न लगाया हुआ ।
 अनियोग-(सं. पुं.) नियोग या प्रयोग का अभाव ।
 अनियोगी-(हिं. वि.) संबंध न रखनेवाला ।
 अनिरुक्त-(सं. वि.) अच्छी तरह न समझाया हुआ, सम्यक् व्याख्यारहित ।
 अनिरुद्ध-(सं. वि.) जिसका निरोध न हो, न रोका हुआ, अवद्ध, बाधा-रहित; (पुं.) श्रीकृष्ण के पौत्र का नाम । (इसका विवाह वाणासुर की पुत्री रुपा से हुआ था ।)
 अनिरूपित-(सं. वि.) जिसका निरूपण या निर्देशन न हुआ हो ।
 अनिर्णय-(सं. पुं.) निर्णय का अभाव, अनिश्चय ।

अनिर्णीत-(सं. वि.) अनिश्चित ।
 अनिर्दिश्य, अनिर्देश्य-(सं. वि.) जिसका निर्देश न हुआ हो या न किया जा सके ।
 अनिर्दिष्ट-(सं. वि.) जो निर्दिष्ट या निरूपित न हो ।
 अनिर्देश-(सं. पुं.) निर्देश या निरूपण का अभाव ।
 अनिर्धारित-(सं. वि.) स्थिर न किया हुआ, अनिश्चित ।
 अनिर्वंध-(सं. वि.) वंधन-रहित, स्वतंत्र ।
 अनिर्भर-(सं. वि.) जो निर्भर या आश्रित न हो ।
 अनिर्मल-(सं. वि.) मलिन, मैला ।
 अनिर्वचनीय-(सं. वि.) जिसका वर्णन न किया जा सके, अगम्य; (पुं.) परमात्मा, ब्रह्मा, माया ।
 अनिर्वाच्य-(सं. वि.) जिसका वर्णन न हो सके, निर्वाचन न किये जाने योग्य, जो चुना न जा सके ।
 अनिर्वाण-(सं. वि.) न वृद्धा हुआ; (पुं.) निर्वाण या मोक्ष का अभाव ।
 अनिर्वाह-(सं. पुं.) निर्वाह का अभाव, आय की न्यूनता, रोजी नहीं चल सकना ।
 अनिर्वाह्य-(सं. वि.) निर्वाह न करने योग्य ।
 अनिर्वृत्ति-(सं. स्त्री.) चिंता, वैचैनी, उद्विग्नता ।
 अनिल-(सं. पुं.) वायु, हवा ।
 अनिलकुमार-(सं. पुं.) पवनतनय, हनुमान, भीम ।
 अनिलसला-(सं. पुं.) अग्नि ।
 अनिवारित-(सं. वि.) बिना रोका या हटाया हुआ ।
 अनिवार्य-(सं. वि.) जो निवार्य या ऐच्छिक न हो, अत्यावश्यक ।
 अनिवृत, अनिवृत्त-(सं. वि.) अबाधित ।
 अनिवैदित-(सं. वि.) अवर्णित, अकथित ।
 अनिश-(सं. वि.) निरंतर, अविरत ।
 अनिश्चित-(सं. वि.) निश्चय न किया हुआ, अनिर्दिष्ट, अनवधारित ।
 अनिषिद्ध-(सं. वि.) निषेध-रहित, बिना रोक-टोक का ।
 अनिष्ट-(सं. पुं.) अहित, अपकार, बुराई, हानि, विपाद, पाप, दुःख, अमंगल; (वि.) अशुद्ध, अशुभ, अधम ।
 अनिष्टकर-(सं. वि.) बुराई करनेवाला ।
 अनिष्टसूचक-(सं. वि.) अपकार की सूचना देनेवाला ।
 अनिष्ट-शंका-(सं. स्त्री.) अनिष्ट या अहित की आशंका ।
 अनिष्टुर-(सं. वि.) जो कठोर हृदय का

न हो, सरल ।
 अनिष्पत्ति-(सं. स्त्री.) अपूर्णता, असफलता ।
 अनिष्पन्न-(सं. वि.) अपूर्ण, असमाप्त ।
 अनिस्तीर्ण-(सं. वि.) जिससे छुटकारा न मिला हो ।
 अनी-(हिं. स्त्री.) नोक, अन्नभाग, कोर, सिरा, नाव का अगला भाग, सेना, खेद, ग्लानि; (मुहा.)-पर फनी चाटना-अत्यधिक आत्म-ग्लानि के कारण आत्महत्या करना ।
 अनीक-(सं. पुं.) सेना, दल, युद्ध, कलह, चेष्टा, क्षेत्र, श्रेणी; (हिं. वि.) अनुत्तम, बुरा ।
 अनीच-(सं. वि.) प्रतिष्ठित, माननीय ।
 अनीठ-(हिं. वि.) अनिष्ट, अधम, बुरा ।
 अनीड-(सं. वि.) बिना नीड या धोंसले का ।
 अनीत-(हिं. स्त्री.) अनीति, अन्याय ।
 अनीति-(सं. स्त्री.) दुर्नीति, अन्याय, अत्याचार, अंधेर, असभ्यता ।
 अनीतिज्ञ-(सं. वि.) नीति में अनिपुण ।
 अनीप्सित-(सं. वि.) अनिच्छित ।
 अनीश-(सं. पुं.) विष्णु; (वि.) प्रमु-शून्य, असमर्थ, अनाथ, अधिकाररहित, अस्वतंत्र ।
 अनीशत्व-(सं. पुं.) शक्तिशून्यता ।
 अनीश्वर-(सं. वि.) प्रमुहीन, बिना स्वामी का, ईश्वर से भिन्न, नास्तिकता ।
 अनीश्वरता-(सं. स्त्री.), अनीश्वरत्व-(सं. पुं.) ईश्वर की असत्ता, नास्तिकता ।
 अनीश्वरवाद-(सं. पुं.) ईश्वर को न मानने का मत, नास्तिकता, मीमांसा ।
 अनीश्वरवादी-(सं. वि.) ईश्वर को न माननेवाला, नास्तिक, मीमांसक ।
 अनीस-(हिं. पुं.) अनीश, अनाथ, जिसका कोई रक्षक न हो ।
 अनीह-(सं. वि.) चेष्टाशून्य, इच्छारहित ।
 अनीहा-(सं. स्त्री.) चेष्टाशून्यता, उद्योग-हीनता ।
 अनु-संस्कृत का एक उपसर्ग जो-पीछे, साथ-साथ, इधर-उधर, सद्दा, पास, तथा प्रत्येक-के अर्थ में कुछ शब्दों के पहिले लगाया जाता है ।
 अनुकंपक-(सं. वि.) दया करनेवाला ।
 अनुकंपन-(सं. पुं.) दया, कृपा; (वि.) दयालु, हमदर्द ।
 अनुकंपा-(सं. स्त्री.) दया, कृपा, अनुग्रह, सहानुभूति ।
 अनुकंपित-(सं. वि.) जिस पर अनुग्रह किया गया हो ।
 अनुकथन-(सं. पुं.) पीछे बताना, वास्तव-लाप, वर्णन ।

अनुकरण—(सं. पुं.) नकल करना ।
 अनुकरणीय—(सं. वि.) अनुकरण या नकल करने योग्य ।
 अनुकर्ता—(सं. पुं.) अनुकरण करनेवाला, आज्ञा माननेवाला ।
 अनुकर्ष, अनुकर्षण—(सं. पुं.) पीछे से आकर्षण या लिंचाव ।
 अनुकार—(सं. पुं.) अनुकरण ।
 अनुकारी—(सं. वि.) अनुकरण करनेवाला, आज्ञाकारी ।
 अनुकीर्तन—(सं. पुं.) सुयश का वर्णन, गुणगान ।
 अनुकूल—(सं. वि.) सहायक, दयालु, पक्षपाती, आश्रय देनेवाला; (पुं.) वह नायक जो एक ही स्त्री पर अनुरक्त रहे, एक अलंकार जिसमें अनिष्ट आचरण से लाम की सिद्धि (प्राप्ति) दिखाई जावे ।
 अनुकूलता—(सं. स्त्री.) अविरोधता, सहानुभूति, मेल ।
 अनुकूलना—(हिं. क्रि. अ., स.) सहायक होना, प्रगल्भ होना या करना, आत्मियता दिखलाना ।
 अनुकृत—(सं. वि.) अनुकरण या नकल किया हुआ ।
 अनुकृति—(सं. स्त्री.) अनुकरण, नकल ।
 अनुवत—(सं. वि.) अकथित, न कहा हुआ ।
 अनुमित—(सं. स्त्री.) विना कही हुई बात, न बोलने का भाव ।
 अनुक्रम—(सं. पुं.) पिछला क्रम, अनुगत क्रम, क्रमबद्धता ।
 अनुक्रमण—(सं. पुं.) पीछे चलना ।
 अनुक्रमणिका—(सं. स्त्री.) विषय-सूची, शब्द-सूची ।
 अनुक्रिया—(सं. स्त्री.) अनुकरण ।
 अनुक्षण—(सं. अव्य.) प्रतिक्षण, निरंतर, लगातार ।
 अनुग—(सं. वि., पुं.) पीछे-पीछे जानेवाला, सेवक, अनुयायी, अनुगामी ।
 अनुगणित—(सं. वि.) गिनती किया हुआ ।
 अनुगत—(सं. वि.) आश्रित, अधीन, अनुकूल, अनुगामी ।
 अनुगति—(सं. स्त्री.) अनुसरण, अनुगमन, पीछे रहने की चाल, मृत्यु ।
 अनुगम, अनुगमन—(सं. पुं.) पीछे जाना, अनुसरण, घिवावा स्त्री का सती होना, सहमरण, अनुगामी ।
 अनुगामी—(सं. वि.) पीछे चलनेवाला, अनुसरण करनेवाला, सहचर, समान अचरण करनेवाला, आज्ञाकारी ।
 अनुगोति—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का छंद ।

अनुगुण—(सं. वि.) समान गुणवाला, सुयोग्य; (पुं.) स्वाभाविक गुण या विशेषता, एक अलंकार जिसमें किसी द्रव्य का पहिला गुण अन्य द्रव्य के संसर्ग से बढ़ा हुआ दरसाया जाता है ।
 अनुगुप्त—(सं. वि.) छिपा हुआ, ढका हुआ, अप्रकट ।
 अनुगृहीत—(सं. वि.) अनुग्रह किया हुआ, कृतज्ञ, जिस पर कृपा दिखलाई गई हो ।
 अनुग्रह—(सं. पुं.) अनिष्ट-निवारण, दया, कृपा, प्रसाद ।
 अनुग्राहक—(सं. वि.) दयालु, कृपालु ।
 अनुग्राही—(हिं. वि.) अनुग्रह करनेवाला ।
 अनुचर—(सं. पुं.) (स्त्री. अनुचरी) साथ चलनेवाला, सहचर, भृत्य, दास ।
 अनुचारक—(सं. पुं.) अनुगामी, सेवक ।
 अनुचारी—(सं. वि.) पीछे जानेवाला, सेवक ।
 अनुचितन—(सं. पुं.), अनुचितता—(सं. स्त्री.) निरंतर चिंता, पीछे या बाद में होनेवाली चिंता ।
 अनुचित—(सं. वि.) अयुक्त, अकर्तव्य, बुरा ।
 अनुच्च—(सं. वि.) जो ऊँचा न हो, नीच ।
 अनुच्छिन्न—(सं. वि.) न कटा हुआ ।
 अनुच्छिष्ट—(सं. वि.) जो जूटा न हो ।
 अनुज—(सं. वि.) जो बाद में उत्पन्न हो, छोटा; (पुं.) छोटा भाई ।
 अनुजन्मा—(सं. पुं.) छोटा भाई ।
 अनुजा—(सं. स्त्री.) छोटी बहन ।
 अनुजाता—(सं. स्त्री.) छोटी बहन ।
 अनुजीवी—(सं. वि.) आश्रित, सेवक ।
 अनुज्ञा—(सं. स्त्री.) आज्ञा, अनुमति, सम्मति, एक अलंकार जिसमें किसी बुरी वस्तु में गुण देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा दिखलाई जाती है ।
 अनुज्ञात—(सं. वि.) अनुमति-प्राप्त, स्वीकृत ।
 अनुज्ञापक—(सं. पुं.) अनुमति देनेवाला ।
 अनुज्ञापन—(सं. पुं.) आज्ञा, आदेश ।
 अनुत्पत्—(सं. वि.) अनुत्पाय युक्त, खिन्न ।
 अनुत्पाप—(सं. पुं.) पश्चात्ताप, पछतावा, गर्मी, जलन ।
 अनुत्पापी—(सं. वि.) पछतावे में पड़ा हुआ ।
 अनुत्तम—(सं. वि.) सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, जो उत्तम या अच्छा न हो ।
 अनुत्तर—(सं. वि.) अत्यंत श्रेष्ठ, उत्तररहित, चुप, मौन; (पुं.) उत्तर का अभाव ।
 अनुत्तान—(सं. वि.) अधोमुख, मुँह नीचे किये हुए, अधो-मुँह ।
 अनुत्थान—(सं. पुं.) उत्थान का अभाव ।
 अनुत्पत्ति—(सं. स्त्री.) उत्पत्ति का अभाव, पैदा न होना ।

अनुत्पन्न—(सं. वि.) जो उत्पन्न न हुआ हो ।
 अनुत्पाव, अनुत्पादन—(सं. पुं.) उत्पत्ति या उत्पादन का अभाव ।
 अनुत्पादक—(सं. वि.) जो उत्पादन न कर सके ।
 अनुत्साह—(सं. पुं.) उत्साहहीनता, उत्साह का न होना; (वि.) जिसमें उत्साह न हो ।
 अनुत्सुक—(सं. वि.) उत्कंठारहित ।
 अनुत्सुकता—(सं. स्त्री.) उत्कंठा का अभाव, धर्म ।
 अनुदक—(सं. वि.) जलशून्य, विना पानी का, जलहीन ।
 अनुदय—(सं. पुं.) उदय न होना, न देख पड़ना ।
 अनुदात्त—(सं. वि., पुं.) जो ऊँचा न हो, स्वल्प, नीचा स्वर ।
 अनुदार—(सं. वि.) जो उदार न हो, अदाता ।
 अनुदार दल—(सं. पुं.) राजनीति में, वह दल जो सामाजिक परिवर्तनों का विरोधी हो ।
 अनुदित—(सं. पुं.) अरुणोदय वेला, पी फटने का समय; (वि.) अकथित, निश्च ।
 अनुदिन, अनुदिवस—(सं. अव्य.) प्रतिदिन, नित्यप्रति ।
 अनुदृष्टि—(सं. स्त्री.) अनुकूल दृष्टि, दयादृष्टि ।
 अनुदेश—(सं. पुं.) वाद का उच्चारण, शिक्षा, उपदेश ।
 अनुद्धत—(सं. वि.) अप्रगल्भ, शांत, सौम्य ।
 अनुद्धरण—(सं. पुं.) उद्धरण का अभाव ।
 अनुद्धार—(सं. पुं.) उद्धार का अभाव, छुटकारा न पाना ।
 अनुद्धत—(सं. वि.) उद्धार या उद्धरण न किया हुआ, अप्रमाणित ।
 अनुद्यत—(सं. वि.) जो उद्यत या तत्पर न हो, उद्यमहीन, आलसी ।
 अनुद्यम—(हिं. पुं.) उद्यमहीनता ।
 अनुद्यमी—(हिं. वि.) उद्यम न करनेवाला ।
 अनुद्योग—(सं. पुं.) उद्योग का अभाव ।
 अनुद्योगी—(सं. वि.) उद्योग न करनेवाला, उद्यमहीन ।
 अनुद्वाह—(सं. पुं.) विवाह का न होना, चिर-कौमार्य ।
 अनुद्विग्न—(सं. वि.) विना उद्वेग या व्याकुलता का, शांत ।
 अनुद्वेग—(सं. पुं.) व्यग्रता या घबड़ाहट का अभाव; (वि.) अनुद्विग्न ।
 अनुधावन—(सं. पुं.) पीछे चलना या दौड़ना, अनुसंधान, खोज, शुद्धि ।

अनुधावित—(सं. वि.) पीछे जानेवाला ।
 अनुध्यान—(सं. पुं.) पीछे किया जाने-
 वाला ध्यान या चिन्ता ।
 अनुनय—(सं. पुं.) प्रार्थना, विनय, विनती ।
 अनुनयी—(सं. वि.) सम्य, विनीत, शांत ।
 अनुनाद—(सं. पुं.) प्रतिध्वनि, शब्द की
 गुंज ।
 अनुनायिका—(सं. स्त्री.) गौण नायिका ।
 अनुनासिक—(सं.पुं.,वि.) नाक से बोला
 जानेवाला (वर्ण, यथा—ञ, म, ङ, ण, न ।)
 अनुनीत—(सं. वि.) विनय से युक्त, पीछे
 लिया हुआ ।
 अनुनीति—(सं. स्त्री.) सभ्यता, नम्रता ।
 अनुन्नत—(सं. वि.) जो ऊँचा न हो, नीचा ।
 अनुन्मत्त—(सं. वि.) जो उन्मत्त या पागल
 न हो, समझदार ।
 अनुपकार—(सं. पुं.) उपकार का अभाव,
 मलाई न करना ।
 अनुपकारी—(सं. वि.) उपकार न करने-
 वाला, उपकाररहित ।
 अनुपात—(सं. वि.) पास में न पहुँचा
 हुआ, अप्राप्त ।
 अनुपज्ञ—(हि. पुं.) उपज का न्यून होना
 या न होना ।
 अनुपत्तन—(सं. पुं.) गिराव, भाग, अंश,
 टुकड़ा ।
 अनुपत्तित—(सं. वि.) गिरा हुआ ।
 अनुपदिष्ट—(सं. वि.) उपदेश या शिक्षा
 न दिया हुआ, अशिक्षित ।
 अनुपदी—(सं. वि.) अनुसरणकर्ता ।
 अनुपनीत—(सं. वि.) जिसका यज्ञोपवीत
 संस्कार न हुआ हो ।
 अनुपपत्ति—(सं. स्त्री.) असंगति, असिद्धि,
 अयुक्ति ।
 अनुपपन्न—(सं. वि.) अप्रमाणित, असंभव ।
 अनुपभुक्त—(सं. वि.) उपभोग में न लाया
 हुआ, न भोगा हुआ ।
 अनुपम—(सं. वि.) उपमाविहीन, अति
 उत्कृष्ट, बहुत अच्छा ।
 अनुपमा—(सं. स्त्री.) अपूर्वता, अनोखापन ।
 अनुपमित—(सं. वि.) उपमा न दिया हुआ,
 अनोखा ।
 अनुपमेय—(सं. वि.) उपमा न देने योग्य ।
 अनुपयुक्त—(सं. वि.) अयोग्य, वैठीक,
 उपयोग में न लाया हुआ ।
 अनुपयुक्तता—(सं. स्त्री.) अधोग्यता ।
 अनुपयोग—(सं. पुं., वि.) उपयोग का
 न होना, जो किसी काम का न हो ।
 अनुपयोगिता—(सं. स्त्री.) अयोग्यता,
 निरर्थकता ।

अनुपयोगी—(सं. वि.) उपयोग-रहित,
 व्यर्थ का, निष्फल ।
 अनुपलम्भ—(सं.पुं.) अज्ञानता, मायावशता ।
 अनुपलक्षित—(सं. वि.) विशेष रूप से न
 वतलाया हुआ ।
 अनुपलब्ध—(सं. वि.) अप्राप्त, अविदित ।
 अनुपलब्धि—(सं. स्त्री.) उपलब्धि का
 अभाव, अप्राप्ति ।
 अनुपवीत—(सं. वि.) जिसका यज्ञोपवीत-
 संस्कार न हुआ हो ।
 अनुपस्थान—(सं. पुं.) उपस्थिति का
 अभाव, अनुपस्थिति ।
 अनुपस्थित—(सं. वि.) अविद्यमान, जो
 समीप में न हो, दूरस्थ ।
 अनुपस्थिति—(सं. स्त्री.) उपस्थिति का
 अभाव, गैरहाजिरी ।
 अनुपहत—(सं. वि.) चोट न खाया हुआ,
 अक्षत ।
 अनुपात—(सं. पुं.) गणित की दो राशियों
 में संबंध दिखलाने की क्रिया, त्रैशिक
 की वह क्रिया जिससे यह ज्ञात होता है
 कि एक राशि दूसरी से कितनी गुनी
 अधिक या कितने भाग कम है ।
 अनुपातक—(सं. पुं.) बहुत बड़ा पाप ।
 अनुपातकी—(सं. वि.) बहुत बड़ा पाप
 करनेवाला ।
 अनुपाती—(सं. वि.) अनुपात संबंधी ।
 अनुपान—(सं. पुं.) आयुर्वेद में औषधि
 के साथ भिलाकर अथवा पीछे से जो
 वस्तु खाई या पी जाय ।
 अनुपानीय—(सं. वि.) अनुपान के योग्य ।
 अनुपुरुष—(सं. पुं.) शिष्य, चेला ।
 अनुपूर्व—(सं. वि.) ठीक क्रम का, क्रमिक ।
 अनुत्त—(सं. वि.) जो न बोया गया हो ।
 अनुप्रपन्न—(सं. वि.) पीछे पड़ा हुआ ।
 अनुप्रवेश—(सं. पुं.) प्रतिविंब का पड़ना ।
 अनुप्राप्त—(सं. पुं.) एक अलंकार जिसमें
 किसी वाक्य में एक ही पद अथवा एक ही
 अक्षर का वारंवार प्रयोग किया जाता है ।
 अनुबंध—(सं. पुं.) बंधन, संबंध, उपक्रम,
 लगाव, भेद, आरोप, क्रम ।
 अनुबंधन—(सं. वि.) संबंध, लगाव ।
 अनुबंधी—(सं. वि.) सहचर, अनुरोधी,
 व्यापक, संश्लिष्ट ।
 अनुदल—(सं. पुं.) वह सेना जो रक्षा के
 लिये पीछे की ओर रक्ती जाती है ।
 अनुद्वेष, अनुद्वेषन—(सं. पुं.) पीछे होने-
 वाला स्मरण ।
 अनुभव—(सं. पुं.) प्रयोगों से प्राप्त किया
 हुआ ज्ञान, जानकारी ।

अनुभवना—(हि. कि. स.) अनुभव करना,
 समझ लेना ।
 अनुभव-सिद्ध—(सं. वि.) प्रयोग या परीक्षा
 से सिद्ध या प्रमाणित ।
 अनुभवी—(सं. पुं., वि.) अनुभव-प्राप्त,
 जानकार व्यक्ति ।
 अनुभाव—(सं. पुं.) सामर्थ्य, प्रभाव,
 महिमा, संकेत, बड़ाई, ख्याति, निश्चय,
 अलंकार में स्थायी चार रसों में से एक ।
 अनुभावक—(सं. वि.) वक्ता देनेवाला ।
 अनुभावन—(सं. पुं.) संकेत अथवा अनु-
 मान से किसी विषय का वतलाना ।
 अनुभावी—(सं. वि.) किसी बात का अनु-
 भव रखनेवाला, प्रत्यक्ष ज्ञान रखनेवाला ।
 अनुभूत—(सं. वि.) अनुभव द्वारा ज्ञात,
 उपलब्ध, परीक्षा किया हुआ ।
 अनुभूति—(सं. स्त्री.) अनुभवी होने की
 दशा, भाव या गुण, संवेदन, बोध ।
 अनुभोग—(सं. पुं.) विना कर की भूमि,
 माफी जमीन ।
 अनुभ्रता—(सं. पुं.) छोटा भाई ।
 अनुमत—(सं. वि.) जिसे अनुमति या
 सम्मति मिली हो, सम्मत, स्वीकृत ।
 अनुमति—(सं. स्त्री.) सम्मति, आज्ञा,
 सलाह, स्वीकृति ।
 अनुमत्त—(सं. वि.) प्रसन्नता से वेमुच,
 आनन्दोन्मत्त ।
 अनुमरण—(सं. पुं.) सती का सहमरण ।
 अनुमाता—(सं. पुं.) अनुमान करनेवाला ।
 अनुमान—(सं. पुं.) न्याय में प्रत्यक्ष
 ज्ञान द्वारा अप्रत्यक्ष विषय का निश्चय या
 विचार, प्रमाण, अटकल, समझ ।
 अनुमानना—(हि. कि. स.) अनुमान करना,
 अटकल करना ।
 अनुमित—(सं. वि.) अनुमान द्वारा निश्चय
 किया हुआ ।
 अनुमिति—(सं. स्त्री.) अनुमान, अटकल ।
 अनुमेय—(सं. वि.) अनुमान करने योग्य,
 अटकल लगाने योग्य ।
 अनुमोद—(सं. पुं.) किसी की सहानुभूति
 में होनेवाली प्रसन्नता, समर्थन ।
 अनुमोदक—(सं. वि., पुं.) समर्थन करनेवाला,
 हामी भरनेवाला ।
 अनुमोदन—(सं. पुं.) प्रसन्नता दिखलाना,
 स्वीकृति, समर्थन ।
 अनुमोदित—(सं. वि.) अनुमोदन किया
 हुआ, स्वीकार करने योग्य ।
 अनुपाधी—(सं. वि., पुं.) पीछे चलनेवाला,
 अनुचर, अनुकरण करनेवाला, अनुगामी,
 सेवक ।

अनुयोग-(स.पुं.) जोड़ना, प्रश्न, पूछताछ, साधन ।
 अनुयोगी-(सं. वि.) संयुक्त करनेवाला, जाड़नेवाला ।
 अनुयोजित-(सं. वि.) प्रश्न पूछा हुआ, जोड़ा हुआ ।
 अनुरञ्जक-(सं. वि., पुं.) प्रेम उत्पन्न करनेवाला, संतुष्ट करनेवाला ।
 अनुरंजन-(सं. पुं.) अनुराग, प्रेम, प्यार ।
 अनुरंजित-(सं. वि.) प्रीति से आनंदित ।
 अनुरक्त-(सं. वि.) प्रेमयुक्त, आसक्त ।
 अनुरक्ति-(सं. स्त्री.) आसक्ति, प्रेम ।
 अनुरत-(सं. वि.) अनुरक्त ।
 अनुरति-(सं. स्त्री.) अनुराग, प्रेम ।
 अनुराग-(सं. पुं.) आसक्ति, प्रेम, प्रीति ।
 अनुरागना-(हि. क्रि.अ., स.) प्रेम दिखलाना ।
 अनुरागी-(सं. वि., पुं.) प्रेम दिखलानेवाला, प्रेमी, अनुरागयुक्त ।
 अनुराध-(हि. पुं.) विनती, प्रार्थना ।
 अनुराधना-(हि. क्रि. स.) प्रार्थना करना, विनती करना ।
 अनुराधा-(सं. स्त्री.) राशिचक्र के सत्ता-ईश नक्षत्रों में से सत्रहवाँ नक्षत्र ।
 अनुबद्ध-(सं. वि.) अनुरोध किया हुआ, प्रसन्न ।
 अनुबध्प-(सं. वि.) समान रूप का, सदृश, योग्य, मिलता-जुलता ।
 अनुरूपता-(सं. स्त्री.) सादृश्य, समानता, वरावरी, अनुकूलता ।
 अनुरोध-(सं. पुं.) वाधा, रुकावट, अभीष्ट-साधना की इच्छा, प्रार्थना, आग्रह ।
 अनुरोधक, अनुरोधी-(सं. पुं., वि.) आग्रह या अनुरोध करनेवाला, रोकनेवाला ।
 अनुलग्न-(सं. वि.) पीछे वा साथ में लगा हुआ, संलग्न ।
 अनुलाप-(सं. पुं.) वारंवार कथन, पुनरुक्ति ।
 अनुलिप्त-(सं. वि.) अनुरंजित, शरीर में गंध, चंदन इत्यादि पोते हुए ।
 अनुलेपन-(सं. पुं.) शरीर में सुगंधित द्रव्य पोतना ।
 अनुलोम-(सं. पुं.) अनुक्रम, ऊँचे से नीचे का क्रम, क्रमानुसार, संगीत में सुरों को क्रम से उतारना, श्रेष्ठ वर्ण के पुरुष का नीचे वर्ण की स्त्री से विवाह करना ।
 अनुवंश-(सं. अव्य.) वंश के अनुसार ।
 अनुवचन-(सं. पुं.) आवृत्ति, दोहराना ।
 अनुवर्तन-(सं. पुं.) अनुसरण, अनुक्रमण, संबंध, किसी नियम का अनेक स्थानों पर घटना ।

अनुवर्ती-(सं. वि.) अनुयायी, पीछे चलनेवाला, आज्ञाकारी ।
 अनुवसित-(सं. वि.) संलग्न, वस्त्र पहिने हुए, संबद्ध ।
 अनुवाक्-(सं. पुं.) वेद के अध्याय का एक भाग, ऋग्वेद अथवा यजुर्वेद का संग्रह, ग्रंथ का भाग, पीछे का बोल जो दोहराया जाता है, टेक ।
 अनुवाचित-(सं. वि.) पूर्वोक्त, पहिले कहा हुआ ।
 अनुवाद-(सं. पुं.) पुनरुल्लेख, दोहरान, अनुकरण, निंदा, भाषांतर, उल्था, न्याय में किसी निदिष्ट वार्ता का दोहराना ।
 अनुवादक-(सं. वि., पुं.) अनुवाद या उल्था करनेवाला ।
 अनुवादित-(सं. वि.) अनुवाद किया हुआ ।
 अनुवासन-(सं. पुं.) धूप आदि द्वारा सुगन्धित करना ।
 अनुवासित-(सं. वि.) सुगंधित किया हुआ ।
 अनुविद्ध-(सं. वि.) विधा हुआ, विद्ध, संलग्न, जड़ा हुआ ।
 अनुवृत-(सं. वि.) अनुगत, पीछे रहनेवाला, अनुगामी ।
 अनुवृत्त-(सं. वि.) सुशील, सच्चरित्र ।
 अनुवृत्ति-(सं. स्त्री.) पीछे की गति, व्याकरण में किसी पूर्व सूत्र के पद का आगे के सूत्र में नियोग; पंशन ।
 अनुवेश-(सं. पुं.) ज्येष्ठ पुत्र का विवाह न करके छोटे का विवाह करना ।
 अनुशय-(सं. पुं.) पश्चात्ताप, पछतावा, शोक, खेद ।
 अनुशयान-(सं. वि.) पश्चात्ताप करनेवाला, पश्चात्तापी ।
 अनुशयाना-(सं. स्त्री.) वह परकीया नायिका जो अपने प्रियतम के संकेत-स्थान पर न पहुँचने से अत्यंत दुःखी हो ।
 अनुशयी-(सं. वि.) पछतावे में पड़ा हुआ ।
 अनुशासक-(सं. वि., पुं.) अनुशासन करनेवाला, नियोजक, आज्ञा देनेवाला, शिक्षक, राज्य का प्रबंधकर्ता ।
 अनुशासन-(सं. पुं.) मानसिक या नैतिक संयम, आदेश, शिक्षा, आज्ञा, व्याख्या, कर्तव्य-दिवान ।
 अनुशासनीय-(सं. वि.) अनुशासन के योग्य ।
 अनुशासित-(सं. वि.) अनुशासन दिया हुआ, प्रबंध किया हुआ ।
 अनुशीलन-(सं. पुं.) सतत अभ्यास या अध्ययन, मनन, विचार, चिंतन, सेवा जो वारंवार की जावे ।
 अनुशीलित-(सं. वि.) वारंवार चिंतित ।

अनुशीक-(सं. पुं.) पश्चात्ताप, पछतावा ।
 अनुशीचक-(सं. पुं.) पछतावा करनेवाला ।
 अनुशीची-(सं. वि.) अनुशीक करनेवाला, पश्चात्तापी ।
 अनुषंग-(सं. पुं.) संबंध, लगाव, दया, पहिले वाक्य से आगे के वाक्य में कुछ शब्द जोड़ा जाना ।
 अनुषंगिक-(सं. वि.) संयुक्त, संलग्न, संबद्ध, प्रासंगिक ।
 अनुषंगी-(सं. वि.) संबद्ध, अनुषंगिक ।
 अनुष्टुप्-(सं. पुं.) आठ-आठ अक्षरों के चार पदों का छंद ।
 अनुष्ठाना-(सं. पुं.) अनुष्ठान करनेवाला ।
 अनुष्ठान-(सं. पुं.) कार्यांश, नियम-पूर्वक किसी कार्य को करना, शास्त्र-विहित कर्म का आचरण, वांछित फल की आकांक्षा से देवताओं की आराधना ।
 अनुष्ठापक-(सं. पुं.) अनुष्ठान करनेवाला ।
 अनुष्ठायी-(सं. पुं.) अनुष्ठान करनेवाला ।
 अनुष्ठित-(सं. वि.) अनुष्ठान किया हुआ ।
 अनुष्ण-(सं. वि.) जो गरम न हो, शीतल, ठंडा ।
 अनुसंधान-(सं. पुं.) अन्वेषण, प्रयत्न, खोज ।
 अनुसंधानना-(हि. क्रि.स.) ढूँढना, खोजना, सोचना, समझना, विचार करना ।
 अनुसंधानी-(हि. वि.) अनुसंधान करनेवाला, जाँच-पड़ताल करनेवाला ।
 अनुसंधायी-(सं. वि.) अनुसंधान करनेवाला, अनुसंधानी ।
 अनुसंधि-(सं. स्त्री.) गुप्त मंत्रणा, कुचक, दुरमिसंधि ।
 अनुसंधेय-(सं. वि.) खोज करनेवाला ।
 अनुसंबद्ध-(सं. वि.) संलग्न, मिला हुआ ।
 अनुसंहित-(सं. वि.) अनुसंधान किया हुआ, खोजा हुआ ।
 अनुसरण-(सं. पुं.) पीछे जाना, अनुकरण, रीति, स्वभाव ।
 अनुसरना-(हि. क्रि. स.) पीछे चलना, अनुसरण करना ।
 अनुसार-(हि. वि., अव्य.) समान, सदृश, अनुकूल ।
 अनुसारना-(हि. क्रि. स.) समान आचरण करना ।
 अनुसारी-(सं. वि.) पीछे जानेवाला, अनुसरण करनेवाला ।
 अनुसाल-(हि. पुं.) व्यथा, पीड़ा, वेदना ।
 अनुसूधा-(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसमें ईर्ष्या न हो, शकुंतला की सहेली का नाम ।
 अनुसृत-(सं. वि.) अनुसरण किया हुआ ।
 अनुसृति-(सं. स्त्री.) अनुसरण ।

अनुसेवी—(सं. वि.) अभ्यास करनेवाला, सेवा करनेवाला ।
 अनुस्मरण—(सं. पुं.) पुनःस्मरण, वाद में याद आना ।
 अनुस्मृति—(सं. स्त्री) अनुस्मरण ।
 अनुस्वार—(सं. पुं.) अनुनासिक वर्ण जो दूसरे वर्ण के साथ मिलकर उच्चारित होता है, अक्षर के माथे पर लगनेवाला चिन्दु (ँ) ।
 अनुहरण—(सं.पुं.) सादृश्य, अनुसार चलना ।
 अनुहरत—(हि.वि.) अनुरूप, अनुसार, योग्य ।
 अनुहरता—(हि.क्रि.स.) अनुकरण करना, बराबरी करना ।
 अनुहरिया—(हि. वि.) सदृश, तुल्य, बराबर; (स्त्री.) मुखड़ा, आकृति ।
 अनुहार—(सं. पुं.) अनुकरण, सादृश्य, समानता; (वि.) सदृश, तुल्य, बराबर, समान ।
 अनुहारक—(सं.वि.) अनुकरण करनेवाला ।
 अनुहारना—(हि.क्रि.स.) बराबर करना, समान करना, तुल्य करना ।
 अनुहारि—(हि. वि.) सदृश, समान, तुल्य, बराबर, योग्य, अनुकूल ।
 अनुहारी—(सं. वि.) अनुकरण करनेवाला, अनुहारक ।
 अनुवत्—(सं. वि.) पीछे से कहा हुआ, दोहराया हुआ ।
 अनुवित्—(सं.स्त्री.)पुनःकथन,वेदाध्ययन ।
 अनुठा—(हि. वि.) (स्त्री. अनुठी) अपूर्व, विलक्षण, निराला, अच्छा, छापे में वह अक्षर जो साफ न उतरा हो ।
 अनुठापन—(हि.पुं.) विलक्षणता, अपूर्वता, अच्छापन, सुंदरता, निरालापन ।
 अनुठ—(सं.वि.)विना व्याहा हुआ, बबारा ।
 अनुठ्ठा—(सं. स्त्री.) अविवाहिता स्त्री ।
 अनुठ्ठागमन—(सं.पुं.) अविवाहिता स्त्री से व्यभिचार ।
 अनुत्तर—(हि. वि.) उत्तरशून्य ।
 अनुद्वित—(सं. वि.) कहा हुआ, भाषांतर या उल्था किया हुआ ।
 अनुप—(सं. पुं.) वह स्थान जहाँ पर प्रचुर जल हो, समुद्र, नदी; (हि. वि.) अनुपम, सुन्दर, उत्तम, अच्छा ।
 अनुप—(सं. पुं.) सूर्य का सारथि अरुण ।
 अनुपर्व—(सं. वि.) जो ऊँचा न हो, नीचा ।
 अनुपू—(सं. वि.) ऋणशून्य ।
 अनुपूता—(सं. स्त्री) ऋण का न होना ।
 अनुपूणी—(सं. वि.) जो ऋणी न हो ।
 अनुत्—(सं. पुं.) असत्य, मिथ्या, झूठ; (वि.) झूठ, अभ्यथा ।

अनृतभाषण—(सं.पुं) झूठ बोलना ।
 अनृतवादी—(सं. पुं.) झूठ बोलनेवाला ।
 अनृतसं—(सं.वि.) जो क्रूर न हो, दयावान् ।
 अनृतसंता—(सं.स्त्री.) कोमलता, दयालुता ।
 अनेक—(सं. वि.) एक से अधिक, बहुसंख्य, बहुत ।
 अनेककृत्—(सं. पुं.) शिव, शंकर ।
 अनेकज—(सं. वि.) जो कई बार उत्पन्न हुआ हो ।
 अनेकता—(सं.स्त्री.) अधिकता, बहुतायत ।
 अनेकत्व—(सं. पुं.) अनेकता, अधिकता ।
 अनेकधा—(सं. अव्य.) प्रायः, बहुधा, कई प्रकार से ।
 अनेकशः—(सं. अव्य.) अनेक प्रकार से ।
 अनेकाकी—(सं. वि.) जो एकाकी या अकेला न हो ।
 अनेकाक्षर—(सं. वि.) जिसमें कई अक्षर मिले हों ।
 अनेकार्थ—(सं. वि.) एक से अधिक अर्थोंवाला ।
 अनेरा—(हि. वि.) असत्य, झूठ, व्यर्थ, निष्प्रयोजन, दुष्ट, अन्यायी, क्रूर ।
 अनह—(हि. पुं.) स्नेह का अभाव, प्रेम का न होना ।
 अनैक्य—(सं. पुं.) एकता का न रहना, मतभेद, फूट, मेल न मिलना ।
 अनैश्वर्य—(सं.पुं.) अनीश्वरत्व, अधीनता ।
 अनैस—(हि. वि.) नष्ट, बुरा ।
 अनैसना—(हि.क्रि.अ.) बुरा मानना, लूटना ।
 अनैसा—(हि. वि.) अप्रिय, बुरा ।
 अनैसे—(हि. अव्य.) बुरी तरह से ।
 अनहा—(हि. पुं.) उपद्रव, उत्पात, बखड़ा ।
 अनोकह—(सं. पुं.) वृक्ष, पादप, पेड़ ।
 अनोखा—(हि. वि.) (स्त्री. अनोखी) अपूर्व, विलक्षण, निराला, नया, विचित्र, सुंदर, योग्य ।
 अनोखापन—(हि. पुं.) अपूर्वता, निरालापन, नवीनता, विचित्रता, योग्यता, सुंदरता ।
 अनौचित्य—(सं. पुं.) उचित न होना, अनुपयुक्तता ।
 अनौट—(हि. पुं.) देखें 'अनवट' ।
 अनौद्वित्य—(सं. पुं.) गर्व का न रहना, उद्वत न होना ।
 अन्न—(सं. पुं.) अनाज, घान्य, खाद्य पदार्थ, पकाया हुआ भोजन, मात, जल, सूर्य, प्राण, पृथ्वी ।
 अन्नकूट—(सं. पुं.) मात की राशि. वैष्णवों का एक उत्सव जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। उस दिन नाना प्रकार के सुंदर भोजन का नैवेद्य

भगवान को अर्पण किया जाता है ।
 अन्नकोष्ठ—(सं. पुं.) अन्न रखने का भांड, खत्ती, कोठिला ।
 अन्नछत्र—(सं. पुं.) मुखे-कंगालों को भोजन वांटने का स्थान ।
 अन्नज, अन्नजात—(सं.वि.) अन्न से उत्पन्न ।
 अन्न-जल—(सं. पुं.) दानापानी, जीविका, खानपान; (मुहा.)—छोड़ देना—उपवास या अनशन करना ।
 अन्नद—(सं. पुं.) अन्न देनेवाला ।
 अन्नदा—(सं. स्त्री.) अन्नपूर्णा देवी ।
 अन्नदाता—(सं. वि.) अन्न देनेवाला, प्रतिपालक, स्वामी, परिपोषक, मालिक ।
 अन्नदान—(हि. पुं.) भोजन देना ।
 अन्नपति—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 अन्नपाक—(सं.पुं.) उदर में अन्न का पाचन ।
 अन्न-पानी—(हि. पुं.) देखें 'अन्न-जल' ।
 अन्नपूर्णा—(सं. स्त्री.) अन्न की अविष्ठात्री देवी ।
 अन्नप्राशन—(सं. पुं.) दस संस्कारों के अन्तर्गत वह संस्कार जिसमें छठे या आठवें महीने के बालक को प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है ।
 अन्नभाग—(सं. पुं.) भोजन का अंश ।
 अन्नमय—(सं.वि.) खाद्य सामग्री से परिपूर्ण ।
 अन्नमय कोष—(सं.पुं.) स्थूलशरीर जिसका पालन-पोषण अन्न द्वारा होता है ।
 अन्नरत्न—(सं. पुं.) जठरानल में अन्न का परिपाक होने पर इसका दूध के समान रस, जीवन-तत्व ।
 अन्नलिप्ता—(सं. स्त्री.) भोजन की इच्छा ।
 अन्न-वस्त्र—(सं. पुं.) खाना-कपड़ा ।
 अन्न-विकार—(सं.पुं.) अन्न का बदला हुआ रूप—रस, रक्त, पित्त, कफ आदि ।
 अन्न-संस्कार—(सं. पुं.) भोजन के पदार्थ को पवित्र करना ।
 अन्न-सत्र—(सं. पुं.) वह स्थान जहाँ भूखों और कंगालों को भोजन वांटा जाता है, अन्नक्षेत्र ।
 अन्ना—(हि.स्त्री.) दूध पिलानेवाली घाय, दाई ।
 अन्नादान—(सं.पुं.) भोजन करना, नाना ।
 अन्नार्थी—(सं. वि.) भोजन मांगनेवाला, भिक्षुक ।
 अन्नाशन—(सं. पुं.) देखें 'अन्न-प्राशन' ।
 अन्य—(सं.वि.) मित्र, इतर, दूसरा, असादृश ।
 अन्यकृत—(सं. वि.) (काम) जो दूसरे का किया हुआ हो ।
 अन्यग, अन्यगामी—(सं. वि.) व्यभिचारों ।
 अन्यगोत्र—(सं. वि.) दूसरे कुल का ।

अन्यचित्त—(सं. वि.) अन्यमनस्क, जिसका चित्त दूसरी ओर लगा हो ।
 अन्यजात—(सं. वि.) दूसरे कुल में उत्पन्न ।
 अन्यतम—(सं. वि.) बहुतेसे पदार्थों मेंसे एक ।
 अन्यतः—(सं. अव्य.) किसी दूसरे से, किसी दूसरे स्थान में ।
 अन्यत्र—(सं. अव्य.) अन्य स्थान में, कहीं और, दूसरी जगह ।
 अन्यत्व—(सं. पुं.) परायापन ।
 अन्यथा—(सं. अव्य.) अन्य प्रकार; (वि.) मिथ्या, असत्य, विपरीत, उल्टा, और का और; (पुं.) विरोध ।
 अन्यथा-ख्याति—(सं. स्त्री.) भ्रमात्मक ज्ञान ।
 अन्यथाभूत—(सं. वि.) और का और ही हो गया हुआ ।
 अन्यथासिद्ध—(सं. वि.) जो पदार्थ अन्य प्रकार से सिद्ध हो ।
 अन्यथासिद्धि—(सं. स्त्री.) अन्य प्रकार से सिद्धि, यथार्थ वात न दिखलाकर किसी वात को सिद्ध करने का प्रयत्न ।
 अन्यदेशीय—(सं. वि.) दूसरे देश का, परदेशी ।
 अन्यधर्म—(सं. पुं.) भिन्न गुण, भिन्न धर्म ।
 अन्यपर—(सं. वि.) जिसका चित्त दूसरी ओर लगा हो ।
 अन्यपुरुष—(सं. पुं.) दूसरा मनुष्य, व्याकरण में उत्तम-मध्यम के सिवा पुरुष ।
 अन्यपूर्वा—(सं. स्त्री.) पति के मरने पर दूसरे से विवाह करनेवाली स्त्री ।
 अन्यभूत—(सं. पुं.), अन्यभूता—(सं. स्त्री.) जिसका पालन-पोषण दूसरा कोई करे, कोकिल ।
 अन्यमनस्क—(सं. वि.) अनमना, चंचल-चित्त, उदास, चिंतित ।
 अन्यराष्ट्रीय—(सं. वि.) दूसरे राष्ट्र का ।
 अन्यरूप—(सं. पुं.) बदला हुआ भेष ।
 अन्यवर्णा—(सं. वि.) दूसरे रंग का ।
 अन्यवादी—(सं. वि.) प्रतिवादी, असत्य बोलनेवाला, झूठा ।
 अन्यन्नत—(सं. पुं.) यथेच्छाचारी मनुष्य ।
 अन्यसंभोग-दुःखिता—(सं. स्त्री.) परस्त्री में अपने प्रियतम के संभोग-चिह्न को देखकर दुःखी होनेवाली नायिका ।
 अन्यसुरति-दुःखिता—(सं. स्त्री.) * देखें 'अन्य-संभोग-दुःखिता' ।
 अन्याधीन—(सं. वि.) दूसरे के अधीन, दूसरे पर भरोसा करनेवाला ।
 अन्यापदेश—(सं. पुं.) अन्योक्ति ।
 अन्याय—(सं. पुं.) न्याय का अभाव, अनैति, अविचार, न्यायविरोध आचरण, अत्याचार, अंधेर ।

अन्यायी—(सं. वि.) अन्याय करनेवाला, दुराचारी ।
 अन्यारा—(हिं. वि.) जो अलग न हो, निराला, अनोखा ।
 अन्यार्थ—(सं. वि.) भिन्न अर्थवाला (शब्द, वाक्य आदि) ।
 अन्याश्रित—(सं. वि.) (स्त्री. अन्याश्रिता) दूसरे पर आश्रित, परजीवी ।
 अन्यास—(हिं. अव्य.) अनायास ।
 अन्यासक्त—(सं. वि.) दूसरे पर आसक्त, दूसरे के आधार पर ठहरा हुआ ।
 अन्यून—(सं. वि.) जो कम न हो, पर्याप्त, पूर्ण ।
 अन्यूनान्नािक—(सं. वि.) जो न्यूनाधिक न हो, ठीक-ठीक ।
 अन्येद्यु—(सं. अव्य.) दूसरे दिन ।
 अन्योक्ति—(सं. स्त्री.) अन्योपदेश, वह वात जिसका अर्थ साधर्म्य के विचार से दूसरे पर घटाया जावे ।
 अन्योढा—(सं. स्त्री.) दूसरे की विवाहिता स्त्री ।
 अन्योत्सुक—(सं. वि.) दूसरे के लिये उत्सुक ।
 अन्योदर्य—(सं. पुं.) दूसरी माता से उत्पन्न, सौतेला भाई ।
 अन्योन्य—(सं. वि.) आपस में, परस्पर, एक अलंकार जिसमें दो पदार्थों के किसी गुण या क्रिया का एक दूसरे के कारण उत्पन्न होना कहा जावे ।
 अन्योन्यकलह—(सं. पुं.) आपस का झगड़ा ।
 अन्योन्यभेद—(सं. पुं.) आपस की शत्रुता ।
 अन्योन्यवृत्ति—(सं. स्त्री.) एक का दूसरे पर प्रभाव ।
 अन्योन्याभाव—(सं. पुं.) परस्पर की अनुपस्थिति सम्बन्धी भेद ।
 अन्योन्याश्रय—(सं. वि.) आपस का आश्रय, संबंध या सहारा; परस्पर की अपेक्षा; न्याय में जब किसी वस्तु के ज्ञान के लिये दूसरी किसी वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा होती है ।
 अन्योन्याश्रित—(सं. वि.) एक दूसरे के सहारे पर, परस्पर आश्रित ।
 अन्वक्ष—(सं. वि.) अनुगत, पीछे जानेवाला ।
 अन्वय—(सं. पुं.) वंश, मेल, सम्बन्ध, सन्तान, जाति, संयोग, तारतम्य, अवकाश, पद्य के शब्दों को वाक्य-रचना के नियमानुसार कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम में वाक्य में प्रयोग, अनुकूलता ।
 अन्वयव्यतिरेक—(सं. पुं.) न्याय में वह साधक हेतु जिसके द्वारा साध्य निश्चित होता है ।
 अन्वयी—(सं. वि.) एक ही वंश का, संबंधी ।

अन्ववेक्षा—(सं. स्त्री.) अनुरोध, अपेक्षा ।
 अन्वादेश—(सं. पुं.) एक कार्य कर लेने पर दूसरा कार्य करने की आज्ञा ।
 अन्वाहृद्—(सं. वि.) पीछे चढ़नेवाला ।
 अन्वासीन—(सं. वि.) पीछे बैठा हुआ ।
 अन्विच्छा—(सं. स्त्री.) वाद की अभिलाषा ।
 अन्वित—(सं. वि.) अनुगत, सहित, युक्त, मिला हुआ ।
 अन्वीक्षण—(सं. पुं.) खोज, पर्यालोचना, विचार, ध्यान देकर देखना ।
 अन्वीक्षा—(सं. स्त्री.) ध्यान से देखना, पर्यालोचना, खोज ।
 अन्वेक्षक—(सं. वि., पुं.) अनुसंधान करनेवाला, खोजनेवाला ।
 अन्वेषक—(सं. वि., पुं.) अन्वेषण करनेवाला, खोज करनेवाला ।
 अन्वेषण—(सं. पुं.) अनुसन्धान, खोज, गवेषणा, तलाश ।
 अन्वेषणा—(सं. स्त्री.) देखें 'अन्वेषण' ।
 अन्वेषित—(सं. वि.) अनुसन्धान किया हुआ, खोजा हुआ ।
 अन्वेषी, अन्वेष्या—(सं. पुं.) खोजनेवाला, अनुसन्धान करनेवाला ।
 अन्हवाना—(हिं. क्रि. स.) स्नान कराना, नहलाना ।
 अन्हाना—(हिं. क्रि. अ.) स्नान करना, नहाना ।
 अपंकिल—(सं. वि.) जो पंकिल या कीचड़-सा न हो ।
 अपंग—(हिं. वि.) लूजा-लगाड़ा, अंगहीन ।
 अपंडित—(सं. वि.) मूर्ख, अज्ञान ।
 अप—(सं. उप.) उपसर्ग जो 'निषेध, अनादर, त्याग, वियोग, बुरा, अधिक तथा विरोध' अर्थ में व्यवहृत होता है; (हिं. सर्व.) 'आप' शब्द का पूर्वपदी रूप; यथा-अपस्वार्थी ।
 अपकरण—(सं. पुं.) दुराचार, दुर्व्यवहार ।
 अपकर्त्ता—(हिं. पुं.) बुरा काम करनेवाला, दुःशील, अनिष्टकारी ।
 अपकर्म—(सं. पुं.) कुकर्म, बुरा काम, पाप ।
 अपकर्ष—(सं. पुं.) हीनता, घटाव, अपमान, निरादर, नीचे को खींचना, उतार ।
 अपकर्षक—(सं. वि.) निरादर करनेवाला ।
 अपकर्षण—(सं. पुं.) देखें 'अपकर्ष' ।
 अपकलंक—(सं. पुं.) बड़ा कलंक जो मिटाये न मिटे ।
 अपकाजी—(हिं. वि.) अपस्वार्थी ।
 अपकार—(सं. पुं.) अनिष्ट, अहित, हानि, अनुपकार, निन्दा, अनादर, द्वेष ।
 अपकारक—(सं. वि.) हानि पहुँचानेवाला, द्वेषी, विरोधी ।

अपकारी—(सं. वि.) अनिष्ट करनेवाला, विरोधी ।
 अपकारीचार—(हिं. वि.) हानिकारक, विघ्नकर्ता ।
 अपकीर्ति—(हिं. स्त्री.), अपकीर्ति—(सं. स्त्री.) अपयश, निन्दा, अयश ।
 अपकृत—(सं. वि.) अनिष्ट या विरोध किया हुआ, अपमानित ।
 अपकृति—(सं. स्त्री.) अनिष्ट, अपकार, द्वेष ।
 अपकृष्ट—(सं. वि.) निरुद्ध, बुरा, हीन, अधम, भ्रष्ट, पतित ।
 अपकृष्ट जाति—(सं. स्त्री.) नीच जाति ।
 अपकृष्टता—(सं. स्त्री.) अधमता ।
 अपक्रम—(सं. पुं.) अनियम, व्यतिक्रम, उलट-पलट, अपमान, गड़बड़, क्रम का ठीक न होना ।
 अपक्रमण—(सं. पुं.) देखें 'अपक्रम' ।
 अपक्रमी—(सं. वि.) अपक्रमवाला ।
 अपक्रिया—(सं. स्त्री.) अपकार, बुरा काम, कुकर्म ।
 अपक्रोश—(सं. पुं.) भर्त्सना, घमकी ।
 अपक्व—(सं. वि.) विना पका हुआ, कच्चा, असिद्ध, अनभ्यस्त ।
 अपक्वता—(सं. स्त्री.) असिद्धता, कच्चापन ।
 अपक्ष—(सं. वि.) पक्षहीन, विना सहायक का ।
 अपक्षपात—(सं. पुं.) पक्षपात का अभाव, निरपेक्षता, समदृष्टि ।
 अपक्षपाती—(सं. वि.) पक्षपात न करनेवाला, समदर्शी ।
 अपक्षिप्त—(सं. वि.) फेंका हुआ, गिराया हुआ ।
 अपक्षेपण—(सं. पुं.) अधःपतन, गिराव ।
 अपगत—(सं. वि.) गया या बीता हुआ, भागा हुआ, नष्ट, मृत ।
 अपगमन—(सं. पुं.) अपसरण, भाग जाना ।
 अपग्रह—(सं. पुं.) प्रतिकूल ग्रह (फलित ज्योतिष) ।
 अपघात—(सं. पुं.) विश्वासघात, धोखा, अपमृत्यु, हिंसा, हत्या, आत्महत्या ।
 अपघातक, अपघाती—(सं. पुं., वि.) विश्वासघाती, बंचक, आत्महत्या करनेवाला ।
 अपच—(सं. पुं.) अजीर्ण ।
 अपचय—(सं. पुं.) अपहरण, नाश, हानि, कमी, छीजन ।
 अपचरित—(सं. पुं.) बुरा आचरण, बुराचार ।
 अपचार—(सं. पुं.) अपकार, दोष, अनादर, बुराई, निन्दा, विनाश, कुपथ्य, अनधिकार-प्रवेश, भ्रम, अनिष्ट ।
 अपचारी—(हिं. वि.) बुराचारी, दुर्व्यवहार करनेवाला ।

अपचाल—(हिं. स्त्री.) कुचाल, खोटाई ।
 अपचित—(सं. वि.) पूजित, सम्मानित ।
 अपचिति—(सं. स्त्री.) पूजा, व्यय, हानि ।
 अपची—(सं. स्त्री.) गंडमाला के ऊपर का व्रण या फोड़ा ।
 अपच्छाया—(सं. स्त्री.) प्रेत, बुरी छाया ।
 अपच्छी—(हिं. पुं.) विरोधी, वैरी, शत्रु ।
 अपछरा—(हिं. स्त्री.) अप्सरा ।
 अपजय—(सं. स्त्री.) पराजय, हार ।
 अपजस—(हिं. पुं.) अपयश, दुर्नाम ।
 अपदन—(हिं. पुं.) उवटन ।
 अपटु—(सं. वि.) जो कार्यकुशल न हो, आलसी ।
 अपदुता—(सं. स्त्री.) अकुशलता ।
 अपदृढमान—(हिं. वि.) जो पढ़ा न जा सके, जो पढ़ने योग्य न हो ।
 अपट—(हिं. वि.) निरक्षर, अपढ़, जो पढ़ा-लिखा न हो ।
 अपडर—(हिं. पुं.) भय, शंका ।
 अपडरना—(हिं. क्रि. अ.) भयभीत होना, त्रस्त होना, डरना ।
 अपडाना—(हिं. क्रि. अ.) रार करना, झगड़ना ।
 अपडाव—(हिं. पुं.) लड़ाई-झगड़ा, कलह ।
 अपड—(हिं. वि.) अपेठ, विना पढ़ा-लिखा, अशिक्षित ।
 अपण्य—(सं. वि.) जो द्रव्य बेचने योग्य न हो ।
 अपत—(हिं. वि.) विना पत्तों का, पत्रहीन, अधम, नीच, निर्लज्ज ।
 अपतई—(हिं. वि.) निर्लज्ज; (स्त्री.) निर्लज्जता ।
 अपताना—(हिं. पुं.) वखेड़ा, प्रपंच, जंजाल ।
 अपति—(सं. वि.) पतिविहीन, विधवा, बुराचारी, दुष्ट, पातकी; (हिं. स्त्री.) अपमान, दुर्दशा ।
 अपतीर्थ—(सं. पुं.) बुरा तीर्थ ।
 अपत्नी—(सं. वि., स्त्री.) विना पत्नी का ।
 अपत्य—(सं. पुं.) बालवच्चे, सन्तान ।
 अपत्यशत्रु—(सं. पुं.) केकड़ा, सर्प ।
 अपत्र—(सं. वि.) विना पंख का, विना पत्ते का ।
 अपत्रप—(सं. वि.) निर्लज्ज, लज्जाहीन ।
 अपत्रस्त—(सं. वि.) भयभीत, डरा हुआ ।
 अपथ—(सं. पुं.) जो मार्ग चलने योग्य न हो, विकट मार्ग, कुमार्ग, कुपथ ।
 अपथगामी—(सं. वि.) कुमार्गी, कुपथ पर चलनेवाला ।
 अपथ्य—(सं. वि.) अहितकर, स्वास्थ्य का नाश करनेवाला ।
 अपद—(सं. वि.) विना पैर का, रेंगनेवाला जीव, पादशून्य ।

अपदार्य—(सं. वि.) तुच्छ, निरुद्ध ।
 अपदिष्ट—(सं. वि.) प्रयुक्त, कहा हुआ ।
 अपदेखा—(हिं. वि.) आत्म-प्रशंसक, स्वार्थी, घमडी ।
 अपदेवता—(सं. पुं.) दानव, राक्षस, बुरा देवता ।
 अपदेश—(सं. पुं.) निमित्त, लक्ष्य, वहाना ।
 अपदोष—(सं. वि.) निष्कलंक ।
 अपद्रव्य—(सं. पुं.) कुत्तित पदार्थ, बुरी वस्तु, मिश्रण ।
 अपद्वार—(सं. पुं.) चोर कपाट, खिड़की ।
 अपध्वंस—(सं. पुं.) निद्रा, अपमान, विवकार ।
 अपध्वंसी—(सं. वि.) नाश करनेवाला, नष्ट होनेवाला, निन्दक, अपमान करनेवाला ।
 अपन—(हिं. सर्व.) अपना, हम ।
 अपनयो—(हिं. पुं.) आत्मीयता, आत्मभाव, अपकार, संबंध, ज्ञान, अहंकार, सुघ, मर्यादा, गर्व ।
 अपनय—(सं. पुं.) बुरी नीति, खंडन, स्थानान्तरण, दूर करना, दूसरे स्थान में ले जाना ।
 अपनयन—(सं. वि.) श्रंवा, नयनहीन; (पुं.) दूरीकरण, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना ।
 अपना—(हिं. सर्व.) निज का, निजी, स्वकीय, आत्मीय; (मुहा.)—करना—अपने अनुकूल बनाना, ले लेना;—सा मुँह लेकर रह जाना—ग्लानि के मारे लज्जित या खिन्न होना; अपनी अपनी पड़ना—प्रत्येक व्यक्ति को अपनी-अपनी चिन्ता या फिक्र होना; अपनी गाना—अपनी बात कहते रहना; अपनी नाँद तोना—इच्छानुसार काम करना; अपनी बात पर आना—अपने विचार या कथन पर अटल या कायम रहना; अपने तक रटना—कोई गुप्त बात और किसी से न कहना; अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना—आत्मश्लाघा करना ।
 अपनाता—(हिं. क्रि. सं.) अपना बनाना, अपने पक्ष में लाना, अपने अधिकार में करना, अपने अनुकूल करना, अपनी ओर करना ।
 अपनापन—(हिं. पुं.) आत्मीयता, अपनापन ।
 अपना-पराया, अपना-वेगाना—(हिं. पुं.) स्वजन-पारजन, दोस्त और दुश्मन ।
 अपनाप—(हिं. पुं.) दुर्नाम, अपयश ।
 अपनापत—(सं. स्त्री.) आत्मीयता, स्वकीयता, अपनापन ।
 अपनिद्र—(सं. वि.) निद्रा-रहित ।
 अपनीत—(सं. वि.) दूर किया हुआ ।

अपने-आप—(हि.अव्य.) अपनेसे, खुद, स्वतः।
 अपभय—(सं. वि.) भयशून्य, निर्भय, निडर; (पुं.) निर्भयता।
 अपभृति—(सं. वि.) भयरहित, निर्भय।
 अपभ्रंश—(सं. पुं.) विगाड़, पतन, गिराव, विकृति, विगड़ा हुआ शब्द; (वि.) विगड़ा हुआ।
 अपभ्रंशित—(सं. वि.) विगड़ा हुआ, भ्रष्ट किया हुआ, गिरा हुआ।
 अपभ्रष्ट—(सं. वि.) विगड़ा या गिरा हुआ।
 अपमान—(सं. पुं.) अनादर, तिरस्कार, अवज्ञा।
 अपमानना—(हि.क्रि.स.) अपमान करना, तिरस्कार करना।
 अपमानित—(सं. वि.) तिरस्कृत, तिरस्कार किया हुआ।
 अपमानी—(हि. वि.) अपमान करनेवाला, निरादर करनेवाला।
 अपमाग—(सं. पुं.) कुपथ, कुमार्ग, बुरा रास्ता।
 अपमार्गी—(हि. वि.) कुमार्गी, कुपथी, पापी।
 अपमृत्यु—(सं. स्त्री.) अस्वाभाविक मृत्यु, कुसमय की मृत्यु।
 अपयश—(सं. पुं.) अपकीर्ति, लांछन, बुराई।
 अपयान—(सं. पुं.) पलायन।
 अपरंच—(सं. अव्य.) फिर भी, तो भी।
 अपरंपार—(हि. वि.) अपार, असीम।
 अपर—(सं. वि.) पहिला, अभी, अन्य, दूसरा, पिछला, निकृष्ट।
 अपरकाल—(सं. पुं.) पछला समय।
 अपरछन—(हि. वि.) जो ढँगा या छिपा छिन्न हो, गुप्त।
 अपरतंत्र—(हि. वि.) स्वाधीन, स्वतंत्र।
 अपरता—(सं. स्त्री.) परायापन, बेगानापन।
 अपरती—(सं. वि.) स्वार्थी।
 अपरत्व—(सं. पुं.) पिछलापन, परायापन।
 अपर-दक्षिण—(सं. पुं.) नैर्ऋत्य कोण।
 अपर दिशा—(सं. स्त्री.) पश्चिम।
 अपरपर—(सं. वि.) एक और, दूसरा कोई।
 अपरवल—(हि. वि.) प्रबल, बलवान्।
 अपर-रात्र—(सं. पुं.) रात का पिछला भाग।
 अपर-लोक—(सं. पुं.) दूसरा लोक, परलोक, स्वर्ग।
 अपरवश—(हि. वि.) दूसरे के वश, पराधीन।
 अपरस—(हि. वि.) अस्पृश्य, जो छूने योग्य न हो; (पुं.) एक चर्मरोग।
 अपरस्पर—(सं. वि.) परस्परता के विना।
 अपरामुख—(सं. वि.) जो कर्तव्य से विमुख न हो।
 अपरा—(सं. स्त्री.) पश्चिम दिशा, पदार्थ-विद्या, जराय।

अपराग—(सं. पुं.) विराग, शत्रुता; (वि.) क्लेशरहित।
 अपराजित—(सं. वि.) जो पराजित न हो; (पुं.) शिव, विष्णु।
 अपराजिता—(सं. स्त्री.) दुर्गा, कोयल, कौवा-ठोंडी का फूल, एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में चौदह अक्षर होते हैं।
 अपराध—(सं. पुं.) जुर्म, पाप, भूल, दोष, दंड पाने योग्य काम करना।
 अपराध-भंजन—(सं. पुं.) अपराधों का नाश करनेवाला, शिव।
 अपराधी—(हि. वि.) अपराध करनेवाला, दोषी, पापी।
 अपरावर्ती—(हि. वि.) पीछे न हटनेवाला।
 अपराह्न—(सं. पुं.) दिन का शेष भाग, तीसरा पहर।
 अपरिक्लित—(सं. वि.) अज्ञात, विना देखा-सुना।
 अपरिगण्य—(सं. वि.) अगणित, अनगिनती।
 अपरिगत—(सं. वि.) अपरिचित, अनजान।
 अपरिगृहीत—(सं. वि.) अप्राप्त, त्यागा हुआ।
 अपरिग्रह—(सं. पुं.) दान न लेना, अस्वीकार, विराग, स्त्रीरहितत्व, योग के अनुसार पाँचवाँ यम (संयम)।
 अपरिचय—(सं. वि.) विना जान-पहिचान का; (पुं.) परिचय का अभाव।
 अपरिचित—(सं. वि.) अज्ञात, विना जान-पहिचान का, अनजान, विना परिचय का।
 अपरिच्छन्न—(सं. वि.) आवरणरहित, नंगा।
 अपरिच्छिन्न—(सं. वि.) सीमारहित, असीम, अभेद्य, जिसका टुकड़ा न हो सके, सम्मिलित।
 अपरिज्ञान—(सं. पुं.) तत्त्वज्ञानशून्यता।
 अपरिणत—(सं. वि.) अपरिपक्व, कच्चा।
 अपरिणय—(सं. पुं.) विवाह न होना, कुवारापन।
 अपरिणाम—(सं. पुं.) परिणाम से रहित होने का भाव।
 अपरिणामी—(हि. वि.) परिणामशून्य, व्यर्थ, निष्फल, जिसकी अवस्था में परिवर्तन न हो।
 अपरिणीत—(सं. वि.) विना व्याहा हुआ, अविवाहित, क्वारा।
 अपरितोष—(सं. पुं.) असन्तोष।
 अपरिपक्व—(सं. वि.) जो पका न हो, कच्चा, अधूरा, अप्रौढ़।
 अपरिमाण—(सं. वि.) अपरिमित, बहुत, अधिक।
 अपरिमित—(सं. वि.) अगणित, असीम, अनन्त, असंख्य।

अपरिमेय—(सं. वि.) अगणित, असंख्य, अनगिनत।
 अपरिवर्तनीय—(सं. वि.) जो परिवर्तित न हो सके।
 अपरिवर्तित—(सं. वि.) जो परिवर्तित न हुआ हो।
 अपरिष्कार—(सं. पुं.) मैलापन।
 अपरिष्कृत—(सं. वि.) स्वच्छ न किया हुआ, मैला-कुचैला।
 अपरिहरणीय—(सं. वि.) अत्याज्य, न छोड़ने योग्य, अनिवारित।
 अपरिहार—(सं. पुं.) अनिवारण, दूर करने का उपाय न होना।
 अपरिहारित—(सं. वि.) अनिवारित, अवर्जित।
 अपरिहार्य—(सं. वि.) अत्याज्य, अवर्जनीय, न छोड़ने योग्य, आदरणीय।
 अपरीक्षित—(सं. वि.) परीक्षा या जाँच न किया हुआ।
 अपरुध—(सं. वि.) क्रोध-रहित, गर्वरहित, स्निग्ध।
 अपरूप—(सं. पुं.) अद्भुत रूपयुक्त, अपुन्दर, कुरूप, बेडौल, महा।
 अपरोक्ष—(सं. अव्य.) प्रत्यक्ष।
 अपर्ण—(सं. वि.) पत्रहीन, विना पत्तों का।
 अपर्णा—(सं. स्त्री.) पार्वती, दुर्गा।
 अपर्याप्त—(सं. वि.) अपूर्ण, असमर्थ, जो पर्याप्त न हो।
 अपर्याप्ति—(सं. स्त्री.) अपूर्णता, त्रुटि, कमी।
 अपलक्षण—(सं. पुं.) कुलक्षण, बुरा लक्षण, दोष।
 अपलाप—(सं. पुं.) मिथ्यावाद, वकवाद।
 अपवग—(सं. पुं.) मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, कर्मफल, सफलता, दान, त्याग, पूर्णता।
 अपवर्जन—(सं. पुं.) त्यागना, परित्याग।
 अपवर्जित—(सं. वि.) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ।
 अपवर्तक—(सं. पुं.) गणित में वह संख्या जिससे अन्य दो या अधिक संख्याओं का भाग देने पर शेष कुछ न रहे, गुणनखंड; यथा—४ अंक ८ तथा १२ का अपवर्तक है।
 अपवर्तन—(सं. पुं.) संक्षेप, उलट-फेर, लाघव।
 अपवर्तित—(सं. वि.) पलटा या बदला हुआ।
 अपवर्त्य—(सं. वि.) जिस संख्या को दूसरी किसी संख्या से भाग देने पर कुछ शेष न बचे—वह उस संख्या का अपवर्त्य कहलाता है, यथा—१४ संख्या २ का अपवर्त्य है।
 अपवश—(हि. वि.) अपने अधीन, अपने वश का।
 अपवाचा—(हि. स्त्री.) कुभाषा, बुरी बात।
 अपवाद—(सं. पुं.) निन्दा, विरोध, अपकीर्ति, मिथ्या वार्ता, विश्वास, आदेश, आज्ञा, व्यापक नियम से विरुद्ध नियम।

अपवादक—(सं. पुं.) निन्दक, प्रतिरोधक ।
 अपवादित—(सं. वि.) निन्दा या विरोध किया हुआ ।
 अपवादी—(सं. वि.) अपवाद या निन्दा करनेवाला, विरोधी, बुराई करनेवाला ।
 अपवारण—(सं. पुं.) व्यवधान, रूकावट, अन्तर्धान, हटाने का कार्य ।
 अपवारित—(सं. वि.) छिपाया हुआ, दूर किया हुआ ।
 अपवाहक—(सं. वि.) एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जानेवाला ।
 अपवाहन—(सं. पुं.) एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाना ।
 अपवाहित—(सं. वि.) एक स्थान से दूसरे स्थान में लाया हुआ ।
 अपविघ्न—(सं. वि.) विघ्नशून्य, निर्विघ्न ।
 अपविघ्न—(सं. वि.) अशुद्ध, दूषित, मलिन ।
 अपविघ्नला—(सं. स्त्री.) अशुद्धि, मलिनता ।
 अपविद्ध—(सं. वि.) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, वैवा हुआ; (पुं.) माता-पिता से त्यागा हुआ बालक, जिसका दूसरा कोई पुत्रवत् पालन-पोषण करे ।
 अपविद्या—(सं. स्त्री.) बुरी विद्या, अविद्या ।
 अपविष—(सं. वि.) विष-रहित ।
 अपव्यय—(सं. पुं.) अपरिमित व्यय, दुष्कर्म में व्यय ।
 अपव्ययमान—(सं. वि.) दुर्चय्य करनेवाला ।
 अपव्ययी—(सं. वि.) अनियमित खर्च करनेवाला ।
 अपव्रत—(सं. वि.) दूषित व्रतवाला ।
 अपशकुन—(सं. पुं.) बुरा सगुन, कुसगुन ।
 अपशब्द—(सं. पुं.) अपभ्रंश शब्द, गाली, अर्थहीन शब्द, कुवाच्य, अपान वायु का निकलना, पाद ।
 अपश्चात्तापी—(सं. वि.) पश्चात्ताप या पछतावा न करनेवाला ।
 अपश्चिम—(सं. वि.) जो पिछला न हो, अगला ।
 अपश्री—(सं. वि.) श्री-हीन ।
 अपसगुन—(हिं. पुं.) अपशकुन, असगुन ।
 अपसद—(सं. वि.) नीच, अवग, वर्णसंकर ।
 अपसना—(हिं. वि. अ.) भाग जाना, रिसक जाना, चल देना ।
 अपसर—(सं. पुं.) अपयान, भाग जाना ।
 अपसरण—(सं. पुं.) भागना, चल देना ।
 अपसर्ग—(सं. पुं.) त्याग, मनाही, रोक ।
 अपसर्जन—(सं. पुं.) वर्जन, त्याग, मोक्ष ।
 अपसर्पण—(सं. पुं.) पलायन, खिसक जाना ।
 अपसपित—(सं. वि.) पीछे को खिनका या हटा हुआ ।

अपसव्य—(सं. पुं.) देह का दाहिना भाग, दक्षिण, विपरीत, उलटा, दक्षिण की ओर स्थित ।
 अपसार—(सं. पुं.) अपसरण ।
 अपसारण—(सं. पुं.) दूर कर देना ।
 अपसारित—(सं. वि.) दूर किया हुआ, हटाया हुआ ।
 अपसिद्धांत—(सं. पुं.) गलत या बुरा सिद्धांत ।
 अपसृत—(सं. वि.) अपसारित ।
 अपसृति—(सं. स्त्री.) अपसारण ।
 अपसोस—(हिं. पुं.) दुःख, चिंता ।
 अपसोसना—(हिं. क्रि. अ.) चिन्ता करना, सोच करना, पछताना ।
 अपसौन—(हिं. पुं.) अपशकुन, बुरा सगुन ।
 अपसौना—(हिं. क्रि. अ.) पहुँचाना, आ जाना ।
 अपस्नात—(सं. वि.) मृतक के उद्देश्य में स्नान किया हुआ ।
 अपस्नान—(सं. पुं.) मृतक-स्नान, मृतक के उद्देश्य में स्नान ।
 अपस्मार—(सं. पुं.) भिरगी रोग, वह रोग जिसमें मनुष्य मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ता है ।
 अपस्मृति—(सं. स्त्री.) शीघ्र भूल जाना, भूलवकड़पन ।
 अपस्वार्थी—(हिं. वि.) अपना स्वार्थ साधनेवाला ।
 अपह—(सं. वि.) विनाशक, नाश करनेवाला ।
 अपहत—(सं. वि.) विनाश किया हुआ, हटाया हुआ, दूर किया हुआ ।
 अपहृति—(सं. स्त्री.) विनाश, नाश ।
 अपहरण—(सं. पुं.) छीन लेना, छिपा देना, चोरी ।
 अपहरणीय—(सं. वि.) ले लेने योग्य, छिपाने योग्य ।
 अपहरना—(हिं. क्रि. स.) चुराना, लूटना ।
 अपहर्ता—(सं. पुं.) छीननेवाला, ले लेनेवाला, चोर, लुटेरा, छिपानेवाला ।
 अपहृषित—(सं. पुं.) अकारण हँसी ।
 अपहार—(सं. पुं.) अपहरण, चोरी, छिपाना ।
 अपहारक—(सं. वि.) अपहरण करनेवाला; (पुं.) चोर, डाकू, लुटेरा ।
 अपहारित—(हिं. वि.) छीना हुआ, चुराया हुआ ।
 अपहारी—(सं. वि.) अपहर्ता, चुरानेवाला ।
 अपहार्य—(सं. वि.) चुराने योग्य, छीनने योग्य ।
 अपहास—(सं. पुं.) अकारण हास्य, उपहास ।
 अपहृत—(सं. वि.) चुराया हुआ, छीना हुआ ।
 अपहृति—(सं. स्त्री.) चोरी की हुई वस्तु ।

अपहृत—(सं. पुं.) जानते हुए किसी बात को छिपाना, बहाना, टाल-मटोल ।
 अपहृति—(सं. स्त्री.) छिपाव, बहाना, व्याज, वह अर्थालंकार जिसमें प्रकृत पदार्थ का निषेध करके उस स्थान में वैसा ही कोई दूसरा पदार्थ स्थापित किया जाता है ।
 अपह्रास—(सं. पुं.) कमी, टोटा, घाटा ।
 अपांग—(सं. पुं.) नेत्र का कोना, तिलक, कामदेव; (वि.) अंगहीन ।
 अपाक—(सं. पुं.) अजीर्णता, अपच; (वि.) कच्चा ।
 अपाकरण—(सं. पुं.) दूर करना ।
 अपाकृत—(सं. वि.) दूरीकृत, हटाया हुआ ।
 अपाच्य—(सं. वि.) जो पाच्य न हो ।
 अपाटव—(सं. पुं.) पटुता का अभाव, रोग ।
 अपाठ्य—(सं. वि.) जो पढ़ने योग्य न हो ।
 अपात्र—(सं. वि.) असमर्थ, अयोग्य, कुपात्र, मूर्ख, श्राद्धदि में भोजन न कराने योग्य ।
 अपाद—(सं. वि.) पादशून्य, बिना पैर का, पंगु ।
 अपादान—(सं. पुं.) विनाग, अलगाव, द्याकरण में वह कारक जिसमें विनागादि सूचित होता है । इस कारक में पंचमी विभक्ति लगती है ।
 अपान—(सं. पुं.) शरीर की पाँच वायुओं में से एक, गुदास्थ वायु, अर्धवायु; (हिं. पुं.) आत्माभिमान, आत्म-गीरव, घमंड ।
 अपाय—(सं. वि.) पापहीन, पापरहित; (पुं.) पाप का अभाव, पुण्य ।
 अपामार्ग—(सं. पुं.) चिचिड़ा, लट्जीरा ।
 अपाय—(सं. पुं.) विश्लेष, अपगमन, नाग, अलगाव, अनरीति; (वि.) असमर्थ, निरुपाय, लँगड़ा ।
 अपायी—(सं. वि.) अनित्य, अस्थिर, विनागी ।
 अपार—(सं. वि.) जिसका पार न हो, असीम, सीमारहित, असंख्य, अतिराय ।
 अपारण—(सं. वि.) अक्षम, अयोग्य, नाशक ।
 अपारा—(सं. स्त्री.) दुर्गा, पृथ्वी ।
 अपाजित—(सं. वि.) निकाला हुआ, फँका हुआ ।
 अपाव—(सं. वि.) निरर्थक, व्यर्थ, निष्प्रयोजन ।
 अपाल—(सं. वि.) रजकहीन, विनारक्षक का ।
 अपाव—(हिं. पुं.) अन्याय, अत्याचार, उपद्रव ।
 अपावन—(सं. वि.) मलिन, अपविध, अशुद्ध ।
 अपावर्तन—(सं. पुं.) निवारण, निषेध ।
 अपाश्रय—(सं. वि.) आश्रयहीन ।
 अपाश्रित—(सं. वि.) विरता, त्यागी ।

अपास्त—(सं. वि.) त्यागा हुआ।
 अपाहिज—(हि.वि.) अंगहीन, खंज, आलसी,
 लूला, लँगड़ा, काम करने के अयोग्य।
 अपिण्ड—(सं. वि.) विना पिण्ड का।
 अपि—(सं. अव्य.) भी, ही, अवश्य, निश्चय।
 अपिच—(सं. अव्य.) और भी, तो भी, परंच।
 अपितु—(सं. अव्य.) किन्तु, और भी।
 अपितृ—(सं. वि.) पितृहीन, विना बाप का।
 अपिधान—(सं. पुं.) आच्छादन, आवरण।
 अपिनद्ध—(सं. वि.) बाँधा हुआ, ढँका हुआ।
 अपिदद्ध—(सं. वि.) देखें 'अपिनद्ध'।
 अपिहित—(सं. वि.) आवृत, ढँपा हुआ।
 अपीडन—(सं. पुं.), अपीडा—(सं. स्त्री.)
 नम्रता, कृपा।
 अपीत—(सं. वि.) जो रंग में पीला न हो।
 अपील—(हि. स्त्री.) जैची न्यायालय में
 मुकदमें पर पुनः विचार के लिए दिया
 गया प्रार्थना-पत्र।
 अपुंस्त्व—(सं. पुं.) क्लीवत्व, नामर्दी।
 अपुच्छ—(सं. वि.) विना पूँछ का।
 अपुण्य—(सं. पुं.) पाप; (वि.) पुण्यहीन,
 मैला, बुरा।
 अपुत्र, अपुत्रक—(सं. वि.) पुत्रहीन, विना
 बेटे का, निःसन्तान।
 अपुत्रता—(सं. स्त्री.) पुत्रहीनता, पुत्र न
 रहने की स्थिति।
 अपुत्रा, अपुत्रिका—(सं. स्त्री.) पुत्रहीन स्त्री।
 अपुनपौ—(हि.पुं.) आत्मीयता, मेल-जोल।
 अपुनर्भव—(सं. वि.) पुनर्जन्मरहित, मुक्त।
 अपुनीत—(सं. वि.) अपवित्र, दोषयुक्त,
 अगुद्ध, दूषित।
 अपुरातन, अपुराण—(सं. वि.) जो पुराना
 न हो, नवीन।
 अपुरुष—(सं. वि.) नपुंसक।
 अपुरोदंत—(सं. वि.) विना दाँत का,
 पोपला।
 अपुष्ट—(सं. वि.) दुर्बल, दुबला, पतला,
 अपक्व।
 अपुष्टता—(सं. स्त्री.) पुष्ट न रहने की
 स्थिति, दुबलापन।
 अपुष्प—(सं. वि.) विना फूल का; (पुं.)
 वह वृक्ष जिसमें फूल न होकर फल लगे।
 अपूजक—(सं. वि.) पूजा न करनेवाला,
 अनादरकर्ता।
 अपूजा—(सं. स्त्री.) अनादर, असम्मान।
 अपूजित—(सं. वि.) पूजा न किया हुआ।
 अपूज्य—(सं. वि.) जो पूजन के अयोग्य हो।
 अपूठा—(हि. वि.) अपुष्ट, कच्चा, अपरि-
 पक्व, अनभिज्ञ, जो जानकार न हो,
 अस्फुट, जो खिला न हो।

अपूत—(सं. वि.) अपवित्र, अगुद्ध; (हि.वि.)
 पुत्रहीन, विना सन्तति का; (हि. पुं.)
 अयोग्य पुत्र, कपूत।
 अपूप—(सं. पुं.) गेहूँ या चावल के आटे
 की लिट्टी।
 अपूर—(हि. वि.) पूर्ण, भरा हुआ, भरपूर।
 अपूरना—(हि.क्रि.स.) भरना, हवा भरना,
 शंख आदि बाजा बजाना।
 अपूरव—(हि. वि.) अपूर्व, विलक्षण।
 अपूरा—(हि. वि.) अपूर।
 अपूर्ण—(सं. वि.) जो पूर्ण न हो, असमाप्त,
 अधूरा, न्यून, कम; (पुं.) जो अंक
 अधूरा हो।
 अपूर्णकाल—(सं.वि.) जो उचित समय में
 समाप्त न हो, अधूरा।
 अपूर्णता—(सं. स्त्री.) न्यूनता, अधूरापन,
 कमी।
 अपूर्ण भूत—(सं.पुं.) व्याकरण में क्रिया
 का वह भूतकाल जिसमें क्रिया की
 समाप्ति नहीं दिखलाई जाती है; यथा—
 वह पढ़ता था।
 अपूर्व—(सं. वि.) अनुपम, अनोखा, विचित्र,
 निराला, नूतन, नया, उत्तम, श्रेष्ठ,
 अज्ञात, विना हेतु का।
 अपूर्वता—(सं. स्त्री.) विलक्षणता, अनोखा-
 पन, निरालापन।
 अपूर्वत्व—(सं. पुं.) देखें 'अपूर्वता'।
 अपूर्वरूप—(सं. पुं.) अनोखा रूप, वह
 अलंकार जिसमें पूर्व गुण का मिलना
 असम्भव हो।
 अपूर्वविधि—(सं. स्त्री.) निराला ढंग।
 अपृथक्—(सं. अव्य.) जो अलग न
 रहे, मिला हुआ।
 अपृष्ट—(सं. वि.) विना पूछा हुआ।
 अपेक्षणीय—(सं. वि.) अनुरोध करने
 योग्य, जिसकी अपेक्षा करनी पड़े।
 अपेक्षा—(सं. स्त्री.) आकांक्षा, इच्छा, मिलान,
 किसी पद का दूसरे पद से अन्वय, चाह,
 लालच, आशा, अनुरोध, भरोसा, तुलना।
 अपेक्षित—(सं.वि.) आकांक्षायुक्त, इच्छित,
 चाहा हुआ, आवश्यक।
 अपेक्षिता—(सं. स्त्री.) आकांक्षा, चाह।
 अपेक्षी—(सं. वि.) आकांक्षी, अपेक्षा
 करनेवाला, राह देखनेवाला।
 अपेच्छा—(हि. स्त्री.) अपेक्षा, आकांक्षा।
 अपेय—(सं. वि.) पीने के अयोग्य, जिसका
 पीना शास्त्र के अनुसार निषिद्ध हो।
 अपेठ—(हि. वि.) पहुँच के बाहर, जहाँ
 पहुँच न हो।
 अपेठक—(सं. वि.) जो पिता से न मिला हो।

अपैशुन—(सं. पुं.) पिशुनता का अभाव,
 भलमनसी, सचाई; (वि.) भला, सच्चा।
 अपोण्ड—(सं.वि.) विकलांग, सोलह वर्ष
 से कम वय का, बच्चा, कोमल, डरपोक।
 अपोमय—(सं. वि.) जलपूर्ण, जल से भरा
 हुआ।
 अपोह—(सं. पुं.) त्याग, छुटकारा।
 अपोहनीय—(सं. वि.) जो त्याज्य हो।
 अपोहित—(सं. वि.) हटाया या त्यागा हुआ।
 अपौरुष, अपौरुषेय—(सं. वि.) विक्रमशून्य,
 नामर्द।
 अप्रकट, अप्रकटित—(सं.वि.) अप्रकाशित,
 गुप्त।
 अप्रकरण—(सं. पुं.) अप्रधान विषय।
 अप्रकर्ष—(सं. पुं.) प्रकर्ष का अभाव,
 श्रेष्ठता न होना।
 अप्रकांड—(सं. वि.) शाखाशून्य, विना
 डाल का।
 अप्रकाश—(सं. पुं.) प्रकाश का अभाव,
 छिपाव।
 अप्रकाशक—(सं. वि.) प्रकाशित न
 करनेवाला, धुंभला करनेवाला।
 अप्रकाशमान—(सं. वि.) जो प्रकट न
 हुआ हो, गुप्त, छिपा हुआ।
 अप्रकाशित—(सं. वि.) जो छपकर प्रचलित
 न हुआ हो।
 अप्रकाश्य—(सं. वि.) प्रकाश न करने
 योग्य, गोपनीय।
 अप्रकृत—(सं.वि.) अस्वाभाविक, अयथार्थ,
 कृत्रिम, झूठा, बनावटी।
 अप्रकृति—(सं. स्त्री.) स्वभावहीनता।
 अप्रखर—(सं. वि.) अतीक्ष्ण, मृदु, कोमल।
 अप्रगल्भ—(सं.वि.) जो ढीठ न हो, सहन-
 शील, सम्य।
 अप्रगाध—(सं.वि.) अति गंभीर, बहुत गहरा।
 अप्रचलित—(सं. वि.) जो प्रचलित न
 हो, जो व्यवहार में न आवे, अप्रयुक्त।
 अप्रचुर—(सं. वि.) थोड़ा, न्यून, कम।
 अप्रच्छन्न—(सं. वि.) न छिपा हुआ, स्पष्ट।
 अप्रज—(सं. वि.) निःसन्तान।
 अप्रजा—(सं. स्त्री.) बन्ध्या, बाँझ स्त्री।
 अप्रणीत—(सं. वि.) असम्पन्न, बेकाम।
 अप्रतिकार—(सं.पुं.) प्रतिकार का अभाव,
 बदला न मिलना, रोक न होना।
 अप्रतिकारी—(सं. वि.) बदला न लेनेवाला।
 अप्रतिक्रिया—(सं. स्त्री.) उपशमन न होना,
 न दवाया जाना।
 अप्रतिघात—(सं.पुं.) प्रतिघात का न होना।
 अप्रतिद्वंद्व—(सं. वि.) विना प्रतिद्वंद्वी का।
 अप्रतिपत्ति—(सं. स्त्री.) गौरव का न

रहना, बोध का अभाव, अस्वीकार ।
अप्रतिपन्न—(सं. वि.) अस्वीकृत, अज्ञात, अप्राप्त ।

अप्रतिबंध—(सं. वि.) विना प्रतिबंध का ।
अप्रतिबंधन—(सं. पुं.) रोक रूक न रहना ।
अप्रतिभ—(सं. वि.) प्रतिभारहित, मूक, उत्तररहित ।

अप्रतिभा—(सं. स्त्री.) प्रतिभा का अभाव ।
अप्रतिभ—(सं. वि.) अनुपम, अद्वितीय, असदृश, अनोखा ।

अप्रतिमान—(सं. वि.) अनुपम, वेजोड़ ।
अप्रतियोगी—(सं. वि.) अनुपम, अनोखा, जिसका कोई शत्रु न हो ।

अप्रतिरूप—(सं. वि.) जिसकी आकृति का कोई और न मिले ।

अप्रतिबंध—(सं. वि.) अत्यन्त पराक्रमी ।
अप्रतिविद्ध—(सं. वि.) जिसका निषेध न हो ।
अप्रतिषेध—(सं. पुं.) प्रतिषेध या निषेध का अभाव ।

अप्रतिष्ठ—(सं. वि.) निष्फल, गौरवहीन ।
अप्रतिष्ठा—(सं. स्त्री.) अपकीर्ति, अन्याय, अपमान, अपयश ।

अप्रतिष्ठित—(सं. वि.) अपमानित, अपयशी ।
अप्रतिहत—(सं. वि.) न रोका हुआ, आशा रखनेवाला ।

अप्रतीक—(सं. वि. पुं.) प्रतीक के विना, ब्रह्म ।
अप्रतीकार—(सं. वि.) दमन न करने योग्य; (पुं.) विरोध का अभाव ।

अप्रतीघात—(सं. पुं.) प्रतिघात का अभाव ।
अप्रतीति—(सं. स्त्री.) अविश्वास, ज्ञान न होना ।

अप्रतीय—(सं. वि.) अनुकूल ।
अप्रत्यक्ष—(सं. वि. अव्य.) इन्द्रिय-ज्ञान से परे, अदृश्य, छिपा हुआ, अज्ञात, परोक्ष, गुप्त, अगोचर ।

अप्रत्यक्षता—(सं. स्त्री.) अज्ञानता, अदृश्यता ।
अप्रत्यय—(सं. पुं.) अविश्वास, अश्रद्धा ।
अप्रधान—(सं. वि.) गौण, सामान्य ।

अप्रधानता—(सं. स्त्री.) अधीनता, नीचता ।
अप्रपन्न—(सं. वि.) अज्ञात, न जाना हुआ ।
अप्रवल—(सं. वि.) शक्तिहीन, विना पराक्रम का ।

अप्रभ—(सं. वि.) प्रमाण्य, मन्द ।
अप्रभु—(सं. वि.) असमर्थ, अयोग्य ।
अप्रभुत्व—(सं. पुं.) असामर्थ्य ।
अप्रमत्त—(सं. वि.) सावधान, जो प्रमत्त या उन्मत्त न हो ।

अप्रमा—(सं. स्त्री.) भ्रममूलक ज्ञान ।
अप्रमाण—(सं. पुं.) विना प्रमाण का तथा असम्भव कथन; (वि.) अपार, असीम ।

अप्रमाणिक—(सं. वि.) प्रमाणरहित ।
अप्रमाद—(सं. पुं.) प्रमाद का अभाव; (वि.) भ्रमरहित, जो मत्वाला न हो ।

अप्रमादी—(सं. वि.) सचेत ।
अप्रमित—(सं. वि.) अपरिमित, जिसकी नाप न हो सके, अप्रमाण, अज्ञात ।
अप्रमेय—(सं. वि.) जो न जाना जा सके, जो नापा न जा सके, अपार, अनन्त, प्रमाण द्वारा सिद्ध न होने योग्य ।

अप्रयत्न—(सं. पुं.) यत्न का न होना; (वि.) यत्नरहित ।
अप्रयास—(सं. पुं.) प्रयास का अभाव, आराम ।
अप्रयुक्त—(सं. वि.) व्यवहार में न लाया हुआ, अनियुक्त ।

अप्रयुक्तता—(सं. स्त्री.) अलंकार में शब्दादि का जैसा प्रयोग प्रसिद्ध है, उसके विपरीत व्यवहार करने से यह दोष कहा जाता है ।

अप्रयोग—(सं. पुं.) प्रयोग का अभाव, अलगाव ।
अप्रयोजक—(सं. वि.) प्रयोग करने में अयोग्य ।

अप्रलंब—(सं. पुं, वि.) शीघ्रता, जल्दी, देर न करनेवाला ।
अप्रवर्तक—(सं. वि.) काम में उत्साह न दिखलानेवाला, काम में न लगानेवाला, निष्क्रिय ।

अप्रवीण—(सं. वि.) अज्ञान, मूर्ख, अनाड़ी ।
अप्रबुद्ध—(सं. वि.) अधिक न बढ़ा हुआ ।
अप्रवृत्त—(सं. वि.) काम में न लगा हुआ ।

अप्रवृत्ति—(सं. स्त्री.) प्रवृत्ति का अभाव, काम में उदात्तता, अनुत्साह ।
अप्रशंसनीय—(सं. वि.) प्रशंसा न पाने योग्य ।
अप्रशस्त—(सं. वि.) अश्रेष्ठ ।

अप्रसंग—(सं. पुं.) अलगाव; (वि.) असंबद्ध ।
अप्रसन्न—(सं. वि.) असन्तुष्ट, खिन्न, दुःखी, उदात्त ।

अप्रसन्नता—(सं. स्त्री.) असन्तोष, उदासी, खिन्नता, क्रोध ।
अप्रसव—(सं. वि. स्त्री.) वच्चा न देनेवाली; (पुं.) प्रसव का अभाव ।

अप्रसह्य—(सं. वि.) सहन न करने योग्य ।
अप्रसाद—(सं. पुं.) कृपा का अभाव, अकृपा ।
अप्रसिद्ध—(सं. वि.) अविख्यात, जो प्रसिद्ध न हो, अज्ञात, गुप्त, छिपा हुआ, अदृश ।

अप्रसूत—(सं. वि.) (स्त्री.) अप्रसूता) निःसन्तान, वाँझ, अनुत्पन्न ।
अप्रस्तुत—(सं. वि.) अनिष्पन्न, अनुपस्थित, प्रकरण से अप्राप्त, अप्रदांति ।

अप्रस्तुत प्रशंसा—(सं. स्त्री.) वह अलंकार

जिसमें प्रस्तुत विषय के अतिरिक्त अन्य विषय के वर्णन से प्रस्तुत विषय का बोध कराया जाता है ।

अप्रहृत—(सं. वि.) जिस पर मार न पड़ी हो, जो मारा न गया हो ।

अप्राकृत—(सं. वि.) असामान्य, अस्वाभाविक, असाधारण, विशेष ।
अप्राचीन—(सं. वि.) जो पुराना न हो, नया, नवीन ।

अप्राज्ञ—(सं. वि.) अशिक्षित, जो पढ़ा-लिखा न हो ।

अप्राज्ञता—(सं. स्त्री.) शिक्षा का अभाव ।
अप्राण—(सं. वि.) प्राणहीन, मृत ।
अप्राणी—(सं. वि.) जिसमें प्राण न हो, निर्जीव ।

अप्राधान्य—(सं. पुं.) गौणता, अधीनता, नीचता ।
अप्राप्त—(सं. वि.) जो न पाया गया हो, अनुपस्थित, अलब्ध, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रस्तुत, अनागत ।

अप्राप्तकाल—(सं. वि.) ऋतुहीन, कुसमय का ।
अप्राप्तधीवन—(सं. वि.) श्रतरुण ।
अप्राप्ति—(सं. स्त्री.) न मिलना, अनुपपत्ति, अलाम ।

अप्राप्य—(सं. वि.) न प्राप्त होने योग्य, दुष्प्राप्य, अलभ्य ।
अप्रामाणिक—(सं. वि.) प्रमाणरहित, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, मिथ्या, विश्वास न करने योग्य ।

अप्रामाण्य—(सं. पुं.) प्रमाणान्यता ।
अप्रासंगिक—(सं. वि.) प्रसंगरहित, विना क्रम का ।

अप्रिय—(सं. वि.) अनभीष्ट, अप्रीतिकर, असुचिकर, अच्छा न लगनेवाला, मंत्री न रखनेवाला; (पुं.) शत्रु ।
अप्रियकर—(सं. वि.) कृपा न दिखलानेवाला, अमित्र ।

अप्रियभागी—(सं. वि.) हृतभाग्य ।
अप्रियवादी—(सं. वि.) असम्भ्यता से बोलनेवाला, अनभीष्ट कहनेवाला ।

अप्रीति—(सं. स्त्री.) प्रीति का अभाव ।
अप्रीतिकर—(सं. वि.) असन्तुष्ट, विरुद्ध, असन्तोष दिखलानेवाला ।

अप्रैटिस—(अं. पुं.) व्यावनायिक काम सीखने के लिए उम्मेदवार ।
अप्रेत—(सं. वि.) न मेला हुआ ।

अप्रैल—(अं. पुं.) अंगरेजी वर्ष का चौथा महीना (फाल्गुन-चंद्र) ।
अप्रैटि—(सं. वि.) गर्वहीन, दिना अनिमान का, कातर, उन्मत्त ।

अप्रोढ़ा—(सं. स्त्री.) थोड़े वय की लड़की जिसका विवाह हो गया हो।
 अप्लव—(सं. वि.) जो तैरता न हो।
 अप्सरा—(सं. स्त्री.) स्वर्ग की देवांगना, परी, विद्यावरी, अलौकिक सुन्दरता की स्त्री, वाष्पकण, जलविन्दु।
 अफरना—(हिं. क्रि. अ.) खूब पेट भर कर खाना, अधाना।
 अफरा—(हिं. पुं.) पेट फूलने का रोग, फूलाव।
 अफराना—(हिं. क्रि. अ., स.) पेट भरकर खाना या खिलाना, भोजन से तृप्त करना।
 अफरीदी—(अ. पुं.) भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर वसनेवाली एक पठान जाति।
 अफल—(सं. वि.) फलशून्य, निष्फल, व्यर्थ, शक्तिहीन, बाँझ।
 अफलता—(सं. स्त्री.) निष्फलता, फल न प्राप्त करने की अवस्था।
 अफला—(सं. स्त्री.) घृतकुमारी, धीकुआर।
 अफलातून—(फा. पुं.) प्राचीन यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक और ज्ञानी, प्लेटो।
 अफलित—(सं. वि.) न फला हुआ, प्रयोजनरहित।
 अफवाह—(अ. स्त्री.) जन-श्रुति, उड़ती खबर, गप्प।
 अफसर—(अं. पुं.) प्रशासनिक अधिकारी, हाकिम।
 अफसरी—(हिं. वि.) अफसर जैसा, अफसर का; (स्त्री.) अफसर का पद।
 अफसोस—(फा. पुं.) दुःख, खेद, शोक।
 अफीडेविट—(अं. पुं.) हल्फी वयान, हलफनामा।
 अफीम—(हिं. स्त्री.) पोस्ते के ढोंड़ से निकली हुई गोंद, अहिफेन।
 अफीमची—(हिं. वि.) अफीम खानेवाला।
 अफीमी—(हिं. वि.) देखें 'अफीमची'।
 अफुल्ल—(सं. वि.) अमुकुलित, जो फूला हुआ न हो।
 अफेन—(सं. वि.) विना फेन या ज्ञाप का; (पुं.) अहिफेन, अफीम।
 अवंध—(सं. वि.) देखें 'अवंधन'।
 अवंधन—(सं. वि.) बंधन-रहित, स्वच्छन्द।
 अवंधु, अवंधव—(सं. वि.) मित्रहीन, अकेला।
 अव—(हिं. अव्य.) इस समय, अभी, इस घड़ी; (मुहा.)—की-इत वार;—जाकर-इतनी देर बाद;—तब करना—आज-कल करना, टालना;—तब होना—मरणा-सप्त होना।
 अवटन—(हिं. पुं) देखें 'उवटन'।
 अवट्ट—(सं. वि.) न त्रैवा हुआ, स्वाधीन, मुक्त, स्वच्छन्द, जो किसी के अधीन न हो।

अवध—(सं. पुं.) वध या हिंसा का अभाव; (वि.) जो रोका न जा सके, अचूक।
 अवधू—(हिं. वि.) अज्ञान, अबोध; (पुं.) सन्त, संन्यासी, वैरागी।
 अवध्य—(सं. वि.) वध न करने योग्य, अनर्थक, विना अर्थ का।
 अबर, अब्वर—(हिं. वि.) अवल।
 अबरक—(हिं. पुं.) एक धातु जिसमें तहें होती हैं, इसके चार भेद हैं—पिनाक, ददुर, नाग, वज्र; एक प्रकार का चिकना पत्थर।
 अबरकी—(हिं. वि.) अबरक का बना हुआ।
 अबरख—(हिं. पुं.) देखें 'अबरक'।
 अबरन—(हिं. वि.) अवर्ण्य, न वर्णन करने योग्य।
 अबरी—(फा. वि.) वादल जैसी धारियों-वाला, रंगदार; (स्त्री.) जिल्द-साजी में काम आनेवाला मजबूत चिकना कागज, मार्बल पेपर।
 अबल—(सं. वि.) दुर्बल, कमजोर।
 अबलक, अबलख—(हिं. वि, पुं.) सफेद काला या सफेद लाल रंग का, दुरंगा, कवरा, इस रंग का घोड़ा या बैल।
 अबला—(सं. स्त्री.) स्त्री।
 अबलावल—(सं. पुं.) महादेव, शंकर।
 अबल्य—(सं. पुं.) दुर्बलता।
 अबहु—(सं. वि.) जो अधिक न हो, थोड़ा।
 अबाती—(हिं. वि.) वायुरहित, जिसको हवा न हिलाती हो।
 अबाद—(हिं. वि.) निर्विवाद, आवाद, वसा हुआ।
 अबादान—(हिं. वि.) आवाद, वसा हुआ।
 अबादानी—(हिं. स्त्री.) वस्ती, मलाई, शुभचिन्तन, आनन्द, चहल-पहल।
 अबाध—(सं. वि.) अनिवारित, निर्विघ्न, वाधारहित, अपार, अनियन्त्रित, असीम, निरंकुश।
 अबाधक—(सं. वि.) जो बाधक न हो।
 अबाधा—(सं. स्त्री.) रेखागणित में त्रिकोण के आधार का अंश; (हिं. वि.) वाधारहित।
 अबाध्य—(सं. वि.) जो अधीन न हो, जो रोका न जा सके।
 अबान—(हिं. वि.) शस्त्ररहित।
 अबाबील—(फा. स्त्री.) एक प्रकार की चिड़िया।
 अबार—(हिं. स्त्री.) विलम्ब, देर।
 अबाह्य—(सं. वि.) जो बाहर का न हो, अन्तरंग।
 अविद्ध—(हिं. वि.) अविद्ध, न छिदा हुआ।
 अवरिल—(हिं. वि.) देखें 'अवरिल'।

अनुज्ञ—(हिं. वि.) देखें 'अवूज्ञ'।
 अदुद्धि—(सं. स्त्री.) ज्ञान का अभाव; (वि.) बुद्धिहीन, नासमझ।
 अदुद्धिपूर्वक—(सं. अव्य.) मूर्खता से।
 अदुध—(सं. पुं.) मूखें, गँवार।
 अबूझ—(हिं. वि.) अबोध।
 अवे—(हिं. अव्य.) ओ, अरे, क्यों रे— यह अव्यय अपने से छोटे को सम्बोधन करने में प्रयुक्त होता है; (मुहा.)—तबे बोलना—तिरस्कारसूचक वाक्य बोलना।
 अवेध—(हिं. वि.) अविद्ध, न छेदा हुआ।
 अवेर—(हिं. स्त्री.) विलम्ब, देर।
 अवेश—(हिं. वि.) अधिक, बहुत।
 अवोध—(सं. वि.) अज्ञान, मूखें; (पुं.) मूर्खता।
 अवोधगम्य—(सं. वि.) बोध या तर्क से परे, अचितनीय।
 अवोल—(हिं. वि.) न बोलनेवाला, मौन, अवाक्, चुप, जिसके विषय में कुछ कहा न जाय; (पुं.) बुरी बात, कुबोल, खराब बोली।
 अवोला—(हिं. पुं.) दुःख के कारण मौन रहना।
 अव्ज—(सं. पुं.) जल में उत्पन्न वस्तु, पद्म, कमल, शंख, कपूर, चन्द्रमा, धन्वन्तरि, सौ करोड़ की संख्या;—वाधव—(पुं.) सूर्य;—योनि—(पुं.) ब्रह्मा;—वाहन—(पुं.) शिव;—हस्त—(पुं.) सूर्य।
 अज्जा—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी।
 अज्द—(सं. पुं.) मेघ, बादल, आकाश, साल, वर्ष;—वाहन—(पुं.) शिव, इंद्र;—शत—(पुं.) सौ वर्ष का काल;—सहस्र—(पुं.) हजार वर्ष का समय;—सार—(पुं.) कपूर।
 अज्वि—(सं. पुं.) सरोवर, तालाब, समुद्र, सागर, चार या सात की संख्या।
 अज्विज—(सं. वि.) समुद्र में उत्पन्न; (पुं.) चन्द्रमा, शंख, अश्विनीकुमार।
 अज्विजा—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी, सुरा।
 अज्विसार—(सं. पुं.) रत्न।
 अज्विगि—(सं. पुं.) बड़वानल।
 अज्विग्य—(सं. वि.) ब्राह्मण-विरुद्ध, जो कार्य ब्राह्मण के करने के योग्य न हो।
 अज्विगिद—(सं. वि.) ब्रह्म को न पहि-चाननेवाला।
 अज्विग्य—(सं. पुं.) जो ब्राह्मण शुद्ध आचरण का न हो, ब्राह्मण के कर्म को न करनेवाला मनुष्य।
 अभंगुर—(सं. वि.) स्थिर, न टूटनेवाला।
 अभक्त—(सं. वि.) भक्ति न रखनेवाला, श्रद्धाहीन, विभागरहित, न बाँटा हुआ, पूरा, समूचा।

अभक्ति—(सं. स्त्री.) भक्ति का अभाव, अविश्वास।

अभक्तिमान्—(सं. वि.) भक्तिहीन, अविश्वासी।

अभक्ष—(हिं. वि.) अभक्ष्य, न खाने योग्य।

अभक्षण—(सं. पुं.) भोजन न करने की स्थिति, उपवास; (वि.) जिसका खाना धर्मशास्त्र के विरुद्ध हो, अखाद्य, न भोजन करने योग्य।

अभक्ष-भक्षण—(सं. पुं.) निषिद्ध पदार्थ का भोजन।

अभक्ष्य—(सं. वि.) न खाने योग्य।

अभगत—(हिं. वि.) अभक्त, श्रद्धाहीन।

अभग्न—(सं. वि.) बिना टूटा हुआ, समूचा, अखण्ड।

अभद्र—(सं. वि.) अमंगल, अशुभ, अशिष्ट, बुरा; (पुं.) कष्ट, दुःख।

अभद्रता—(सं. स्त्री.) अमंगलता, अशिष्टता, दुष्टता।

अभय—(सं. पुं.) भय का अभाव, शांति, रक्षा, शिव, महादेव; (वि.) मयशून्य, निडर, निर्भय; -देना—(क्रि. प्र.) शरण देना; -वक्षिणा—(स्त्री.) आपत्ति से बचाने के निमित्त वाग्दान देना;

-दान—(पुं.) त्रास से मुक्त होने के लिए वचन देना, शरण देना; -पद—(पुं.) मुक्ति, मोक्ष; -प्रदान—(पुं.) अमयदान; -वचन—(पुं.) निडर रहने के लिये आश्वासन देना, डर से छुड़ाने की प्रतिज्ञा।

अभया—(सं. स्त्री.) हरीतकी, हरं, विजया, भंग।

अभरम—(हिं. वि.) भ्रमरहित, शंका-शून्य, अभ्रान्त, भ्रम न करनेवाला, निडर; (अव्य.) असन्दिग्ध भाव से, निश्चय से, शंका छोड़कर।

अभल—(हिं. वि.) अश्रेष्ठ, जो मला न हो, बुरा।

अभव—(सं. पुं.) विनाश, मोक्ष, छुटकारा।

अभव्य—(सं. पुं.) अमंगल, दुर्भाग्य; (वि.) अद्भुत, अशुभ, अपूर्व, अनोखा, विलक्षण, असम्य, नीच।

अभाङ्ग—(हिं. वि.) न मानेवाला, जो गुहा-वना न हो, अशोभित, बुरा लगनेवाला।

अभाग—(सं. वि.) अंश का अभाव-युक्त, भागरहित, समूचा; (हिं. पुं.) अभाग्य।

अभागा—(हिं. वि.) भाग्यहीन, प्रारब्ध-हीन, जिसका भाग्य बुरा हो।

अभागी—(हिं. वि.) भाग्यहीन, अभागा; देखें 'अभाग'।

अभाग्य—(सं. पुं.) मन्दभाग्य, भाग्य-हीनता, दुर्दैव।

अभाजन—(सं. पुं.) मन्दपात्र, मूढ़, मूर्ख।

अभार्य—(सं. वि.) बिना पत्नी का, जिसकी स्त्री न हो।

अभाव—(सं. पुं.) सत्ता की शून्यता, अनस्तित्व, असत्त्व, अनवस्था, घाटा, कमी, विरोध, दुर्भाग्य; (वि.) अलंकार में स्थायी भावों से रहित, अनु-रागरहित।

अभावना—(सं. स्त्री.) विचार का अभाव, ध्यान का न होना।

अभावनीय—(सं. वि.) अचिन्तनीय, जिसका सोच न किया जावे।

अभावित—(सं. वि.) भावनान किया हुआ।

अभावण—(सं. पुं.) मौन भाव।

अभास—(हिं. पुं.) देवों 'आभास'।

अभि—(सं. उप.) यह उपसर्ग नीचे लिखे अर्थों में प्रयुक्त होता है—

ओर, भीतर, वास्ते, लिये, से, पर, पास, सामने, समीप, अच्छी तरह।

अभिकांक्षा—(सं. स्त्री.) अभिलाषा, वांछा, इच्छा।

अभिकांक्षित—(सं. वि.) वांछित, चाहा हुआ।

अभिकांक्षी—(सं. वि.) अमिलापायुक्त, आकांक्षा रखनेवाला।

अभिकाम—(सं. पुं.) अमिलाष, वांछा, इच्छा।

अभिज्ञत—(सं. वि.) प्रकाशित, तैयार, मरा हुआ।

अभिज्ञम, अभिक्रमण—(सं. पुं.) आरोहण, आक्रमण, चढ़ाई।

अभिक्रांत—(सं. वि.) प्राप्त, आया हुआ, आक्रमण किया हुआ, आरम्भ किया हुआ।

अभिक्रांती—(सं. वि.) उद्योगी, काम-काजी।

अभिक्रोश—(सं. पुं.) निन्दा, घृणा।

अभिक्रोशक—(सं. पुं.) निन्दक।

अभिव्याप्त—(सं. वि.) प्रसिद्ध।

अभिव्याप्त—(सं. पुं.) यश, कीर्ति, प्रसिद्धि।

अभिगत—(सं. वि.) पास पहुँचा हुआ, सामने आया हुआ।

अभिगम, अभिगमन—(सं. पुं.) पास जाना, पहुँच, स्त्री-प्रसंग, सहवास।

अभिगामी—(सं. वि.) समीप जानेवाला, स्त्री से संभोग करनेवाला।

अभिगुप्त—(सं. वि.) अगिरक्षित, छिपा हुआ।

अभिगुप्ति—(सं. स्त्री.) निरीक्षण।

अभिगृहीत—(सं. वि.) पकड़ा हुआ।

अभिगोप्ता—(सं. वि.) अच्छी तरह रक्षा करनेवाला।

अभिग्रह—(सं. पुं.) आक्रमण, अभियोग, लड़ाई।

अभिघात—(सं. पुं.) ताड़न, प्रहार, चोट, दो वस्तुओं की परस्पर रगड़।

अभिघातक, अभिघाती—(सं. पुं.) मारने-वाला शत्रु।

अभिचार—(सं. पुं.) मन्त्र-तन्त्र द्वारा मारण, मोहन, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन तथा वशीकरण के प्रयोग करना।

अभिचारक, अभिचारी—(सं. वि., पुं.) अभिचार करनेवाला।

अभिजन—(सं. पुं.) वंश, कुल, परिवार, जन्मभूमि, श्रेष्ठकुल, प्रसिद्धि, ख्याति।

अभिजय—(सं. पुं.) विजय, जीत।

अभिजात—(सं. वि.) उच्च कुल में उत्पन्न, कुलीन, पण्डित, श्रेष्ठ, बड़ा, मनोहर, मधुर, योग्य, पूज्य।

अभिर्जात—(सं. वि.) सामने होकर शत्रु को जीतनेवाला, एक नक्षत्र जिसकी आकृति सिंघाड़े के समान होती है, जो दो तारों से बना हुआ देख पड़ता है।

अभिज्ञ—(सं. वि.) निपुण, कुशल, बुद्धिमान्।

अभिज्ञा—(सं. स्त्री.) वह बोध या ज्ञान जो पहिले से देखी हुई बात से चित्त में उत्पन्न होता है।

अभिज्ञात—(सं. वि.) पूर्व परिचित, पहिले से जाना हुआ।

अभिज्ञान—(सं. पुं.) स्मृति, ज्ञान, चिह्न, जिसको देखकर पूर्व विषय का स्मरण हो जावे।

अभिज्ञापक—(सं. वि.) सूचित करने-वाला, समाचार पहुँचानेवाला।

अभितप्त—(सं. वि.) जलाया हुआ, दुःखी, उदास।

अभिताप—(सं. पुं.) संकोच, उद्वेग।

अभितृप्त—(सं. वि.) अच्छी तरह सन्तुष्ट किया हुआ।

अभितोमुख—(सं. वि.) जिसका मुन चारों ओर रहे।

अभिदक्षिण—(सं. अव्य.) दक्षिण की ओर।

अभिदर्शन—(सं. पुं.) सम्पूज दर्शन।

अभिदिष्ट—(सं. वि.) संकेत किया हुआ।

अभिदूत—(सं. वि.) भागता हुआ, आक्रांत।

अभिद्रोह—(सं. पुं.) अपकार, निर्दयता, अत्याचार।

अभिधा—(सं. स्त्री.) कथन, नाम, अलंकार में शब्द का सांकेतिक अर्थ धारणनेवाली शक्ति।

अभिधान—(सं. पुं.) कथन, वातचीत, नाम, शब्दकोश ।
 अभिधानक—(सं. पुं.) कोलाहल ।
 अभिधानी—(सं. स्त्री.) रस्ती, डोरी ।
 अभिधानीय—(सं. वि.) नाम लिया जानेवाला ।
 अभिवाचक, अभिवाची—(सं. वि.) बोलनेवाला, बतलानेवाला, कहनेवाला, नाम लेनेवाला ।
 अभिवाचक—(सं. वि.) आक्रमण करनेवाला, टूट पड़नेवाला ।
 अभिवाचन—(सं. पुं.) आक्रमण, आखेट ।
 अभिवाच्य—(सं. वि.) वाच्य, जिसके विषय में संकेत किया गया हो, वर्णन करने योग्य ।
 अभिनन्दन—(सं. पुं.) आनन्द, सन्तोष, सन्तुष्ट करने के लिए प्रशंसा, इच्छा, प्रोत्साहन ।
 अभिनन्दन-पत्र—(सं. पुं.) किसी महान् व्यक्ति के आगमन पर सन्तोष तथा आनन्द प्रकट करने के निमित्त अर्पण किया हुआ मानपत्र ।
 अभिनन्दनीय—(सं. वि.) प्रशंसनीय, वन्दनीय ।
 अभिनन्दित—(सं. वि.) प्रशंसित, वन्दनीय ।
 अभिनन्दन—(सं. वि.) आगे की ओर झुका हुआ ।
 अभिनव—(सं. पुं.) मनके भावों को प्रकाशित करनेवाली अंगों की चेष्टा, वनावटी हाव-भावों से किसी विषय का यथार्थ अनुकरण करके दिखाना, स्वांग, नाटक का खेल ।
 अभिनव—(सं. वि.) नवीन, नया, हाल का, अनुभवहीन ।
 अभिनव यौवन—(सं. पुं.) नई जवानी ।
 अभिनिधन—(सं. वि.) मरणासन्न, जो मर रहा हो ।
 अभिनियुक्त—(सं. वि.) परित्यक्त, छोड़ा हुआ ।
 अभिनिविष्ट—(सं. वि.) गड़ा हुआ, आग्रहयुक्त, चित्त लगाये हुए, चिन्ता से व्याकुल, धवड़ाया हुआ ।
 अभिनिविष्टता—(सं. स्त्री.) मनोयोगिता, व्यग्रता ।
 अभिनिवेश—(सं. पुं.) प्रवेश, आसक्ति, लीनता, मनोयोग, प्रणिधान, दृढ़-संकल्प, तत्परता, योगशास्त्र के अनुसार मृत्यु के विषय में भयजनक अज्ञान ।
 अभिनिवेशित—(सं. वि.) निक्षिप्त, फँका हुआ ।

अभिनिवेशी—(सं. वि.) आग्रहयुक्त, हठी ।
 अभिनीत—(सं. वि.) समीप लाया हुआ, युक्त, भूषित, अलंकृत, उचित, कृपालु, अभिनय किया हुआ, अनुकरण किया हुआ ।
 अभिनेता—(सं. पुं.) (स्त्री. अभिनेत्री) अभिनय करनेवाला पुरुष, स्वांग दिखलानेवाला, नाटक का पात्र ।
 अभिनेत्री—(सं. स्त्री.) अभिनय दिखलानेवाली स्त्री ।
 अभिनेय—(सं. वि.) अंगों की चेष्टा द्वारा अनुकरण करने योग्य, खेला जाने योग्य, नाटक करने योग्य ।
 अभिन्न—(सं. वि.) अपृथक्, जो भिन्न न हो, दृढ़, पुष्ट, सन्बद्ध, मिला हुआ, गणित में पूर्णांक ।
 अभिन्नता—(सं. स्त्री.) अखंडता, पूर्णता ।
 अभिन्न-पद—(सं. पुं.) अलंकार में श्लेष का एक भेद ।
 अभिन्नपुट—(सं. पुं.) महुवे का फूल, कमल ।
 अभिन्नात्मा—(सं. वि.) अभिन्न-हृदय ।
 अभिपत्तन—(सं. पुं.) नीचे को गिरना, आक्रमण ।
 अभिपन्न—(सं. वि.) आपद्ग्रस्त, अभिमूत ।
 अभिप्रणय—(सं. पुं.) अनुरजन, प्रेम, कृपा ।
 अभिप्राप्त—(सं. वि.) मिला हुआ, हस्तगत ।
 अभिप्राय—(सं. पुं.) आशय, तात्पर्य, अर्थ ।
 अभिप्रीति—(सं. स्त्री.) अभिलाषा, इच्छा ।
 अभिप्रेत—(सं. वि.) अभिलषित, उद्दिष्ट ।
 अभिभव—(सं. पुं.) पराजय, अनादर, तिरस्कार ।
 अभिभवनीय—(सं. वि.) हारने योग्य ।
 अभिभावक—(सं. वि.) पराजयकारी, हरानेवाला, अपमान करनेवाला, रक्षक, आत्मीय, स्वजन ।
 अभिभावन—(सं. पुं.) विजय, जीत ।
 अभिभावी—(सं. वि.) जीतनेवाला, अपमान करनेवाला ।
 अभिभावुक—(सं. वि.) देखें 'अभिभावी' ।
 अभिभाषण—(सं. पुं.) सम्मुख बोलना ।
 अभिभाषित—(सं. वि.) निवेदित, कहा हुआ ।
 अभिभाषी—(सं. वि.) सामने बोलनेवाला ।
 अभिभूत—(सं. वि.) विचलित, धवड़ाया हुआ, पीड़ित, परामूत, हराया हुआ, व्याकुल, वश में लाया हुआ ।
 अभिभूति—(सं. स्त्री.) पराजय, हार, अपमान ।
 अभिमंडन—(सं. पुं.) शृंगार, सजवज ।
 अभिमंडित—(सं. वि.) अलंकृत, शृंगार किया हुआ ।

अभिमत—(सं. वि.) सम्मत, अभीष्ट, वांछित, स्वीकार किया हुआ; (पुं.) अभिलाषा, सम्मति, विचार ।
 अभिमति—(सं. स्त्री.) अभिमान, अहंकार, अभिलाषा, आदर, सम्मान, मिथ्या-ज्ञान ।
 अभिमन्यु—(सं. पुं.) अर्जुन के पुत्र का नाम ।
 अभिमर्दन—(सं. पुं.) युद्ध, लड़ाई, शत्रु द्वारा देश का नाश ।
 अभिमर्दी—(सं. पुं.) कष्ट पहुँचानेवाला, पीड़ा, देनेवाला ।
 अभिमर्श, अभिमर्ष—(सं. पुं.) घर्षण, स्पर्श ।
 अभिमर्षक—(सं. पुं.) स्पर्श करनेवाला, छूनेवाला ।
 अभिमर्षण—(सं. पुं.) स्पर्श, परामव ।
 अभिमाद—(सं. पुं.) मद, नशा ।
 अभिमान—(सं. पुं.) अहंकार, मिथ्या ज्ञान, गर्व, घमंड, शृंगार रस की एक विशेष अवस्था ।
 अभिमानता—(सं. स्त्री.) घृष्टता, दर्प ।
 अभिमानशून्य—(सं. वि.) गर्वरहित, विना घमंड का ।
 अभिमानित—(सं. वि.) अभिमानयुक्त, घमंडी ।
 अभिमानी—(सं. वि.) गर्वयुक्त, अहंकारी, घमंडी ।
 अभिमुख—(सं. अव्य.) समक्ष, सन्मुख, सामने ।
 अभिसुखता—(सं. स्त्री.) सम्मुखता ।
 अभियाता—(सं. पुं.) सामने से धावा करनेवाला ।
 अभियान—(सं. पुं.) आक्रमण, चढ़ाई ।
 अभियुक्त—(सं. वि.) आक्रमण किया हुआ, निन्दित, जिस पर अभियोग चलाया गया हो, प्रतिवादी, मुलजिम ।
 अभियोक्ता—(सं. पुं.) अभियोगकर्ता, वादी ।
 अभियोग—(सं. पुं.) किसी के किये हुए अपकार के निवारण के लिए न्यायालय में प्रार्थना, नालिश, युद्ध के लिए आक्रमण, उद्योग, दोषारोपण ।
 अभियोगी—(सं. पुं.) अभियोगकर्ता, आक्रमण करनेवाला, आग्रही ।
 अभिरक्षण—(सं. पुं.), अभिरक्षा—(सं. स्त्री.) मन्त्र पढ़कर राक्षसादि से सुरक्षित रहने के लिये चारों दिशाओं में सरसों, जल इत्यादि फेंकना, सुरक्षा ।
 अभिरक्षित—(सं. वि.) चारों ओर से सुरक्षित ।
 अभिरत—(सं. वि.) प्रीतियुक्त, प्रसन्न, आसक्त ।
 अभिरति—(सं. स्त्री.) अत्यन्त आसक्ति, प्रसन्नता ।

अभिरना—(हि. क्रि. अ.) सामना करना, भिड़ना, घिटना, मिलाना ।
 अभिरमण—(सं. पुं.) अनुराग, हर्ष ।
 अभिरमणीय, अभिरम्य—(सं. वि.) रमणीय, मनोरम, क्रीड़ा करने योग्य ।
 अभिराम—(सं. वि.) सुन्दर, प्रिय, प्रसन्न करनेवाला ।
 अभिरामता—(सं. स्त्री.) सौंदर्य, मनो-हृता, मोहकता ।
 अभिरामी—(सं. वि.) आनन्द करनेवाला ।
 अभिरुचि—(सं. स्त्री.) अत्यन्त रुचि, इच्छा, स्वाद ।
 अभिरूप—(सं. वि.) सुन्दर, मनोहर, प्रिय, उचित ।
 अभिलक्ष्य—(सं. वि.) लक्ष्य करने योग्य ।
 अभिलषण—(सं. पुं.) उत्कंठा, लालच ।
 अभिलषित—(सं. वि.) इच्छित, वांछित, चाहा हुआ ।
 अभिलाष—(हि. स्त्री.) अभिलाषा, वांछा ।
 अभिलाषना—(हि. क्रि. स.) उत्कण्ठित होना, इच्छा करना ।
 अभिलाषा—(हि. स्त्री.) अभिलाषा, इच्छा ।
 अभिलाषी—(हि. वि.) अभिलाषा करनेवाला, अभिलाषी ।
 अभिलाष—(सं. पुं.) इच्छा, मनोकामना, अनुराग, लोभ, लालच ।
 अभिलाषक—(सं. वि.) इच्छा करनेवाला, आकांक्षी ।
 अभिलाषा—(सं. स्त्री.) देखें 'अभिलाष' ।
 अभिलाषी—(सं. वि.) देखें 'अभिलाषक' ।
 अभिलास, अभिलासा—(हि. स्त्री) देखें 'अभिलाष' ।
 अभिलिखित—(हि. वि.) नियमित रूप से अक्षरों में लिखा हुआ ।
 अभिलीन—(सं. वि.) चिपटा हुआ, हृदय से लगाया हुआ ।
 अभिलुप्त—(सं. वि.) उद्विग्न, घबड़ाया हुआ ।
 अभिलिख (न)—(सं. पुं.) पत्थर पर अक्षरों की खुदाई, चिलालिख, लेख ।
 अभिवंदन—(सं. पुं.) प्रणाम, नमस्कार ।
 अभिवंदना—(सं. स्त्री.) अभिनन्दन, प्रणाम ।
 अभिवचन—(सं. पुं.) सत्य वचन, प्रतिज्ञा ।
 अभिवदन—(सं. पुं.) अनुकूल वाक्य; (वि.) अनुकूल वातां करनेवाला, प्रसन्नमुख ।
 अभिवर्तो—(सं. वि.) सम्मुख जानेवाला ।
 अभिवांछित—(सं. वि.) अभिलाषा किया हुआ, आकांक्षित ।
 अभिवाद—(सं. पुं.) प्रणाम, नमस्कार ।
 अभिवादक—(सं. वि.) प्रणाम करनेवाला ।
 अभिवादन—(सं. पुं.) नमस्कार, प्रणाम,

स्तुति, वन्दना ।
 अभिवादित—(सं. वि.) अभिवादन या नमस्कार किया हुआ ।
 अभिवाद्य—(सं. वि.) नमस्कार करने योग्य ।
 अभिवात्त, अभिवात्तन—(सं. पुं.) आवरण, ओढ़ना ।
 अभिविनोत—(सं. वि.) सुशील, सज्जन ।
 अभिवृद्धि—(सं. स्त्री.) समृद्धि, बढ़ती ।
 अभिव्यञ्जक—(सं. वि.) प्रकाशक, निर्देशक ।
 अभिव्यञ्जन—(सं. पुं.) प्रकाशन, अभिव्यक्ति ।
 अभिव्यक्त—(सं. वि.) प्रकट, स्पष्ट, प्रकाशित, बतलाया हुआ ।
 अभिव्यक्त—(सं. स्त्री.) प्रकाशन, घोषणा, डिहोरा, साक्षात्कार, सांख्य-मत से अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म रूप से कार्य का आविर्भाव, किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरे में परिवर्तन ।
 अभिव्यापक—(सं. वि.) सब दिशाओं में अथवा शरीर के सब अवयवों में व्यापक ।
 अभिव्याप्त—(सं. वि.) सम्मिलित, मिला हुआ, सर्वव्यापक ।
 अभिव्याप्ति—(सं. स्त्री.) सब दिशाओं में व्याप्ति, सर्वव्यापकता ।
 अभिव्याहृत—(सं. वि.) उच्चारित, बोला हुआ, कथित ।
 अभिवांक—(सं. वि.) सब तरह से शंकायुक्त ।
 अभिवांका—(सं. स्त्री.) भ्रम, संशय ।
 अभिवांकित—(सं. वि.) शंकायुक्त, भय-ग्रस्त, त्रस्त ।
 अभिशप्त—(सं. वि.) श्राप दिया हुआ, निन्दित, अभियोग लगाया हुआ ।
 अभिशक्त—(सं. वि.) झूठा अपवाद लगाया हुआ, अभिशाप से ग्रस्त ।
 अभिशाप—(सं. पुं.) शाप, मिथ्यावाद, झूठा दोष, कोसना ।
 अभिशापित—(सं. वि.) अभिशाप दिया हुआ, कोसा हुआ ।
 अभिर्षण—(सं. पुं.) शपथ, अभिशाप, पराजय, हार, आसक्ति, व्यसन, संगति, पूर्ण संयोग, आलिंगन, मिथ्या दोषारोपण, शोक, प्रतिवादा ।
 अभिषवत—(सं. वि.) पराजित, निन्दित ।
 अभिषवित—(सं. वि.) विविपूर्वक नहलाया हुआ, अभिषेक किया हुआ, मन्त्र पढ़कर जल से माजिन किया हुआ ।
 अभिषेक—(सं. पुं.) सिंहासनारोहण, शान्ति के निमित्त विधिपूर्वक सेचन, अधिकारी बनने के लिये स्नान, मन्त्र से मार्जन, पुरश्चरण के अन्त में मन्त्र द्वारा सिर पर जल डालना, बोलायन्त्र में जल भरकर

मन्त्र पढ़ते हुए शिर्वालिग पर घीरे-घीरे पानी टपकाना ।
 अभिषेक-शाला—(सं. स्त्री.) वह भवन जिसमें राज्याभिषेक का संस्कार किया जाता है ।
 अभिषेचन—(सं. पुं.) देखें 'अभिषेक' ।
 अभिष्टुत—(सं. वि.) प्रशंसित, स्तुति किया हुआ ।
 अभिष्ट्यंद—(सं. पुं.) अति वृद्धि, वहाव, जल का गिरना, आँस का एक रोग, आँख आना या उठना ।
 अभिसंतप्त—(सं. वि.) अति व्यथित, दुःखित, पीड़ित ।
 अभिसंधक—(सं. वि.) आक्षेप करनेवाला ।
 अभिसंधान—(सं. पुं.) अन्तिम आशय ।
 अभिसंधि—(सं. स्त्री.) धोखा, षँटना ।
 अभिसंवृत—(सं. वि.) आच्छादित, ढपा हुआ, आवृत ।
 अभिसंपन्न—(सं. वि.) पूर्ण रूप से सफल ।
 अभिसंस्तुत—(सं. वि.) अति प्रशंसित ।
 अभिसन्नद्ध—(सं. वि.) अलंकृत, सजा हुआ ।
 अभिसम्मूख—(सं. वि.) मुख आगे किये हुए ।
 अभिसर—(हि. पुं.) अनुचर, भृत्य ।
 अभिसरण—(हि. पुं.) सम्मुख गमन, अभि-गमन ।
 अभिसरना—(हि. क्रि. अ.) गमन करना, जाना, निर्विष्ट स्थान में पहुँचना ।
 अभिसार—(सं. पुं.) युद्ध, चढ़ाई, आक्रमण, सम्मिलन, बल, सहाय, सहाय, नायक का नायिका से मिलने के लिये संकेत-स्थान को जाना ।
 अभिसारना—(हि. क्रि. अ.) चले जाना, किसी संकेत-स्थान में प्रिय से मिलने के लिये प्रस्थान करना ।
 अभिसारिका—(सं. स्त्री.) वह नायिका जो काम-पीड़ित होकर अपने प्रियतम को संकेतस्थल में भेजे अथवा स्वयं जावे ।
 अभिसारिणी—(हि. स्त्री.) अनुचरी, नौकरानी, अभिसारिका ।
 अभिसारी—(हि. वि.) सम्मुख जानेवाला, आक्रमण करनेवाला, सायक, सहायक ।
 अभिहत—(हि. वि.) मारा-पीटा हुआ, सन्तप्त, गणित में गुणन किया हुआ ।
 अभिहर—(हि. वि.) उठा ले जानेवाला ।
 अभिहरणीय—(हि. वि.) पास ले आने योग्य ।
 अभिहर्ता—(हि. पुं.) हरण करनेवाला, उठा ले जानेवाला ।
 अभिहार—(हि. पुं.) आलिंगन, वन्दन, अभियोग ।
 अभिहित—(हि. वि.) नापित, कथित, कहा हुआ, नाम का ।

अभी—(हि. वि.) भयरहित, निर्भय;
(हि. अच्य.) इसी समय, तुरन्त।
अभीक—(हि. वि.) निर्भीक, निडर,
दूर, निष्टुर, चिन्तायुक्त, उत्सुक।
अभील—(हि. वि.) निर्भय, भयरहित, निडर।
अभीति—(हि. स्त्री.) भय का अभाव।
अभीक्षित—(हि. वि.) वांछित, इच्छा
किया हुआ।
अभीम—(हि. वि.) जो भयंकर न हो,
जिसको डर न लगता हो।
अभीर—(हि. पुं.) ग्वाला, अहीर, एक
छन्द जिसके प्रत्येक पाद में ग्यारह
मात्राएँ होती हैं।
अभीरी—(हि. स्त्री.) अहीरों की भाषा।
अभीरु—(हि. वि.) निर्भय, निडर; (पुं.)
शिव, भैरव।
अभीष्ट—(हि. वि.) वांछित, ईप्सित,
चाहा हुआ, प्रिय; (पुं) मनोरथ, चाही
हुई बात।
अभीष्टता—(हि. स्त्री.) प्रियता, चाह।
अभीष्ट-लाभ—(सं.पुं.), अभीष्ट-सिद्धि—
(सं.स्त्री.) अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति।
अभुआना—(हि. क्रि. अ.) अवीर होना,
अधिक चेष्टा करना, हाथ-पैर पटकना
और सिर को नचाना।
अभुदत—(हि. वि.) अभक्षित, न खाया
हुआ, व्यवहार में न लाया हुआ।
अभुदतमूल—(सं.पुं.) ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त
के तथा मूल नक्षत्र के आदि के दो दण्ड
जिसमें उत्पन्न बालक पितृ-धन का भोग
नहीं करता।
अभुन—(हि. वि.) आरोग्य, रोगरहित,
स्वस्थ, अकुटिल।
अभुज—(हि. वि.) बाहुहीन, लूला।
अभू—(हि. पुं.) विष्णु, नारायण।
अभूत—(सं. वि.) अविद्यमान, विलक्षण,
अपूर्व, वर्तमान, प्राणहीन।
अभूतपूर्व—(हि. वि.) पहिले न होनेवाला,
जो पहिले न हुआ हो।
अभूतज्ञ—(हि. वि.) जिसके बैरी न हों।
अभूति—(हि. स्त्री.) सम्पत्ति का अभाव,
शक्ति का अभाव; (वि.) सम्पत्तिहीन,
निर्धन।
अभूमि—(सं.पुं.) अनाश्रय, भूमिहीन; (सं. वि.)
भूमिशून्य।
अभूमि—(सं. वि.) कुछ, थोड़ा।
अभेद—(सं. पुं.) भेद का अभाव, ऐक्य,
एकपत्ता, बराबरी, मेल, संगठन;
(वि.) अभिन्न, समान, न बाँटा हुआ।
अभेद्य—(सं. वि.) न बाँटनेवाला।

अभेदनीय—(सं. वि.) जिसका भेद न किया
जा सके, विभक्त न होनेवाला, अच्छेद्य।
अभेदवादी—(सं.पुं.) जो मनुष्य परमात्मा
और जीवात्मा में भेद नहीं देखता।
अभेद्य—(सं. वि.) जो तोड़ा या छेद न
किया जा सके, जिसका विभाग न हो
सके, अविभाज्य।
अभेद्यता—(सं. स्त्री.) अविच्छेद्यता, टुकड़े
न होने की स्थिति।
अभेरना—(हि. क्रि. स.) भिड़ाना, सटाना,
मिलाना।
अभेरा—(हि. पुं.) युद्ध, लड़ाई, झगड़ा,
टक्कर, सामना, मुठभेड़।
अभेज—(सं. पुं.) विपरीत औपधि।
अभै—(हि.) देखें 'अभय'।
अभैर—(हि.पुं.) वह रस्सी जिसमें करगह
की कंधी लटकाई जाती है।
अभोक्ता—(सं. पुं.) आनन्द न लेनेवाला।
अभोग—(सं. पुं.) भोग या आनन्द का
अभाव।
अभोगी—(सं. वि.) देखें 'अभोक्ता'।
अभोग्य—(सं. वि.) न भोगने योग्य,
काम में न लाने योग्य।
अभोजन—(सं. पुं.) भोजन का अभाव,
उपवास।
अभोजित—(सं. वि.) भोजन न किया हुआ।
अभोज्य—(सं. वि.) अभक्ष्य, भोजन
करने के लिये निषिद्ध।
अभौतिक—(सं. वि.) पंचभूत से सम्बन्ध
न रखनेवाला।
अभौम—(सं. वि.) भूमि से उत्पन्न न
होनेवाला।
अभ्यंग—(सं. पुं.) शरीर में तेल का मर्दन,
लीपना, पीतना।
अभ्यंजन—(सं. पुं.) तेल का मर्दन,
बाँखों में सुरमा या काजल लगाना,
सजावट, आमृषण।
अभ्यंजनीय—(सं. वि.) मर्दन करने योग्य।
अभ्यंतर—(सं. पुं.) अन्तराल, बीच का
स्थान, अन्तःकरण, हृदय; (वि.)
भीतरी, मध्य का।
अभ्यंतर कला—(सं. स्त्री.) विलास संबंधी
गुप्त विद्या।
अभ्यधिक—(सं. वि.) अधिक परिमाण का।
अभ्यर्चन—(सं. पुं.) पूजन, पूजा।
अभ्यर्थना—(सं. स्त्री.) सम्मुख प्रार्थना,
अगवानी, आदरसहित प्रार्थना।
अभ्यर्चित—(सं. वि.) पूजित, प्रणसित।
अभ्यर्थनीय—(सं. वि.) प्रार्थना करने
योग्य, अगवानी करने योग्य।

अभ्यर्थित—(सं. वि.) प्रार्थना किया हुआ,
अगवानी किया हुआ।
अभ्यर्थी—(सं. वि.) प्रार्थना करनेवाला।
अभ्यर्हित—(सं. वि.) पूजित, प्रतिष्ठित।
अभ्यवकाश—(सं. पुं.) खुला स्थान।
अभ्यसन—(सं. पुं.) अभ्यास, व्यायाम।
अभ्यसनीय—(सं. वि.) अभ्यास करने योग्य।
अभ्यसित—(सं. वि.) अभ्यास किया हुआ।
अभ्यस्त—(सं. वि.) अभ्यास किया हुआ,
वारंवार किया हुआ, निपुण, शिक्षित।
अभ्याख्यात—(सं. वि.) झूठा अभियोग
लगाया हुआ।
अभ्यागत—(सं. वि.) सम्मुख आया हुआ;
(पुं) अतिथि, पाहुन, युद्ध, लड़ाई, रण-
क्षेत्र, पड़ोस।
अभ्याघात—(सं. पुं.) ताड़न, मार।
अभ्याघाती—(सं. पुं.) आक्रमण करनेवाला।
अभ्यारंभ—(सं. पुं.) प्रथम आरम्भ।
अभ्याहृद्—(सं. वि.) बढ़ा हुआ, आगे
निकला हुआ।
अभ्यारोह—(सं. पुं.) ऊपर का चढ़ाव, उन्नति।
अभ्याश—(सं. पुं.) निकटता, पड़ोस।
अभ्यास—(सं. पुं.) किसी काम को बार-बार
करना, पुनरावृत्ति, साधन, अनुशीलन,
शिक्षा, वान, स्वभाव, आवृत्ति, दोहराव।
अभ्यासी—(सं. वि.) अभ्यास करनेवाला।
अभ्याहत—(सं. वि.) आहत, चोट खाया हुआ।
अभ्युक्त—(सं. वि.) सामने कहा हुआ,
प्रकाशित।
अभ्युत्थान—(सं. पुं.) किसी का आदर
करने के लिये उठकर खड़े हो जाना,
उठना, उद्भव, उन्नति, अधिकार-
प्राप्ति, उदय, उच्च पद की प्राप्ति।
अभ्युत्थायी—(सं. वि.) उठनेवाला।
अभ्युत्थित—(सं. वि.) जिसका अभ्युत्थान
हुआ हो।
अभ्युदय—(सं. पुं.) मनोरथ की सिद्धि,
वृद्धि, उन्नति, बढ़ती, आनन्द, शुभ फल,
आरम्भ, ग्रहों का उदय, दैवगति, शुभ
अवसर।
अभ्युदित—(सं. वि.) अच्छी तरह से निकला
हुआ, बढ़ा हुआ, प्रसिद्ध किया हुआ।
अभ्युन्नत—(सं. वि.) उठा हुआ, बढ़ा-चढ़ा।
अभ्युन्नति—(सं. स्त्री.) अच्छी उन्नति।
अभ्युपगमन—(सं. पुं.) प्रतिज्ञा, स्वीकार,
नियम, विश्वास, न्याय में बिना देखी-
सुनी किसी बात के खण्डन होने पर
उसकी विशेष परीक्षा करना।
अभ्युपयुक्त—(सं. वि.) नियुक्त, काम में
लगा हुआ।

अभ्युषित—(सं. वि.) सम्मुख रहनेवाला ।
 अभ्रलिह—(सं. वि.) गगनस्पर्शी, बहुत ऊँचा; (पुं.) वायु, हवा ।
 अभ्र—(सं. पुं.) अभ्रक, धातु, सुवर्ण, बादल, आकाश ।
 अभ्रक—(सं. पुं.) अवरख धातु ।
 अभ्रपुष्प—(सं. पुं.) वेंत का फूल ।
 अभ्रम—(सं. पुं.) सन्देह या भ्रम का न होना; (वि.) अभ्रान्त, न भूलनेवाला ।
 अभ्रमातंग—(सं. पुं.) इन्द्र का हाथी ऐरावत ।
 अभ्रमाला—(सं. स्त्री.) घटा, बादलों का समूह ।
 अभ्रलिप्त—(सं. वि.) बादलों से भरा हुआ ।
 अभ्रसार—(सं. पुं.) भीमसेनी कपूर ।
 अभ्रान्त—(सं. वि.) प्रमादरहित, न घबड़ाया हुआ, अशुद्धिरहित ।
 अभ्रान्तबुद्धि—(सं. वि.) जिसकी बुद्धि न विगड़ी हो, अभ्रान्त ।
 अभ्रान्ति—(सं. स्त्री.) भ्रान्ति का अभाव, घबड़ाहट का न होना ।
 अभ्रान्त, अभ्रान्तक—(सं. वि.) भ्रान्तहीन, बिना भाई का ।
 अभ्रगल—(सं. वि.) अबुम, अकुशल, मङ्गलशून्य; (पुं.) अकल्याण, रेंड का वृक्ष ।
 अभ्रमंड—(सं. वि.) बिना माँड का, अभ्रमूषण-रहित ।
 अभ्रमंडित—(सं. वि.) आभूषित न किया हुआ, न सजाया हुआ ।
 अभ्रमंद—(सं. वि.) जो मन्द न हो, तीव्र, उद्योगी, श्रेष्ठ, उत्तम ।
 अभ्रमचूर—(हिं. पुं.) सूखे आम की बूकनी ।
 अभ्रमडा—(हिं. पुं.) एक वृक्ष जिसमें बेर के बराबर फल लगते हैं जो खट्टे होते हैं और अचार बनाने के काम में आते हैं, अमरा, अमारी ।
 अभ्रत—(सं. पुं.) रोग, मृत्यु, बीमारी; (वि.) अज्ञात, असम्मत ।
 अभ्रमति—(सं. स्त्री.) ज्ञान का अभाव, मूर्खता; (वि.) ज्ञानहीन ।
 अभ्रमत्त—(सं. वि.) निर्मद, मदरहित, जिसको गर्व न हो ।
 अभ्रमत्सर—(सं. पुं.) ईर्ष्या का अभाव ।
 अभ्रमचुर—(सं. वि.) जो मीठा न हो, कड़वा ।
 अभ्रमध्यम—(सं. वि.) जो बीच का न हो ।
 अभ्रमन—(अ. पुं.) शान्ति, आनन्द, चैन, वचाव, रक्षा ।
 अभ्रमनस्क—(सं. वि.) ज्ञानहीन, अचेतन, अमना, अभ्रमनस्क ।
 अभ्रमना—(सं. वि.) अभ्रमनस्क, नासमझ, कारवाह ।

अभ्रनिया—(हिं. वि.) शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, जो छुआ न गया हो, अच्छता ।
 अभ्रनुष्य—(सं. पुं.) मनुष्य से भिन्न प्राणी, देवता, यक्ष, आदि ।
 अभ्रनुष्यता—(सं. स्त्री.) पुरुषहीनता, नपुंसकता ।
 अभ्रनैक—(हिं. पुं.) सरदार, अवयव के एक विशेष प्रकार के कृषक ।
 अभ्रनोगत—(सं. वि.) ध्यान में न लाया हुआ ।
 अभ्रनोस—(सं. वि.) चित्त को प्रसन्न न करनेवाला ।
 अभ्रनोनीत—(सं. वि.) अनोपिप्त, नापसन्द ।
 अभ्रनोहर—(सं. वि.) जो सुन्दर न हो, भद्दा, कुरूप ।
 अभ्रमता—(सं. स्त्री.), अभ्रमत्व—(सं. पुं.) ममता का अभाव, उदासीनता ।
 अभ्रमर—(सं. वि.) न मरनेवाला, चिर-स्थायी; (पुं.) देवता, पारा, सेहूँड का पौधा, सोना, रुद्राक्ष, हाथी, अमरकोश के रचयिता का नाम ।
 अभ्रमर-काण्ड—(सं. पुं.) देवदारु ।
 अभ्रमरकुसुम—(सं. पुं.) लवंग, लौंग ।
 अभ्रमरण—(सं. पुं.) अमरत्व, अनश्वरता, नित्यता ।
 अभ्रमरणीय—(सं. वि.) अमर, कभी न मरनेवाला ।
 अभ्रमरता—(सं. स्त्री.) अनश्वरता, कभी न मरने की स्थिति, देवत्व, चिरजीवन ।
 अभ्रमरत्व—(सं. पुं.) देखें 'अमरता' ।
 अभ्रमरपक्ष—(पक्ष)—(सं. हिं. पुं.) पितृपक्ष ।
 अभ्रमरपति—(सं. पुं.) देवताओं के स्वामी, इन्द्र ।
 अभ्रमरपद—(सं. पुं.) स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति ।
 अभ्रमरपुर—(सं. पुं.) देवताओं का नगर, अमरावती ।
 अभ्रमर-पुष्प—(सं. पुं.) कल्पवृक्ष, केतकी ।
 अभ्रमरवेल—(हिं. स्त्री.) अमरवल्ली, बिना जड़ और पत्ती की एक लता जो वृक्ष पर फैलती है ।
 अभ्रमरभर्ता—(सं. पुं.) देवताओं के स्वामी, इन्द्र ।
 अभ्रमररत्न—(सं. पुं.) स्फटिक, विल्लौर ।
 अभ्रमरलोक—(सं. पुं.) देवलोक, स्वर्ग ।
 अभ्रमरवल्ली—(सं. स्त्री.) अमरवेल, आकाश-बेंबर ।
 अभ्रमरस—(हिं. पुं.) अमावट ।
 अभ्रमरसरित—(सं. स्त्री.) जाह्नवी, गंगा ।
 अभ्रमरसी—(हिं. वि.) आम के रस के सदृश ।
 अभ्रमरस्त्री—(सं. स्त्री.) देवांगना, अप्सरा ।
 अभ्रमरांगना—(सं. स्त्री.) इन्द्रपुरी की अप्सरा ।

अमरा—(सं. स्त्री.) हूर्वा, हूय, घृतकुमारी, इन्द्रपुरी, गर्भनाडी, अमडा ।
 अमराई—(हिं. स्त्री.) आम की दारी, आम का बगीचा ।
 अमराधिप—(सं. पुं.) देवताओं के स्वामी इन्द्र ।
 अमरापगा—(सं. स्त्री.) जाह्नवी, गंगा ।
 अमरालय—(सं. पुं.) देवताओं का भवन, स्वर्ग, देवलोक ।
 अमरावती—(सं. स्त्री.) देवताओं की नगरी, इन्द्रपुरी ।
 अमरी—(हिं. स्त्री.) देवपत्नी, देवता की स्त्री ।
 अमरस्त—(सं. वि.) वायुरहित, बिना हवा का ।
 अमरस्त, अमरस्त—(हिं. पुं.) एक वृक्ष जिसका गोल-गोल फल मीठा होता है ।
 अमरेश, अमरेश्वर—(सं. पुं.) इन्द्र, शिव ।
 अमरोत्तम—(सं. वि.) देवताओं में सब से उत्तम ।
 अमरत्य—(सं. वि.) जो कभी न मरता हो ।
 अमरदित—(सं. वि.) पैरों से न कुचला हुआ ।
 अमर्याद—(सं. वि.) सीमा-रहित, अप्रतिष्ठित ।
 अमर्यादा—(सं. स्त्री.) प्रगल्भता, निर्लज्जता, अप्रतिष्ठा ।
 अमर्य—(सं. पुं.) क्रोध, रोष, सहनशीलता का अभाव, असहिष्णुता, साहस ।
 अमर्यण—(सं. पुं.) क्रोध, अक्षमा, रोष ।
 अमर्य-हास—(सं. पुं.) क्रोध की हैनी ।
 अमर्यपित—(सं. वि.) क्षमारहित, क्रुद्ध ।
 अमर्यो—(सं. वि.) क्रोधी, असहनशील ।
 अमर्य—(सं. वि.) निर्मल, स्वच्छ, दोष-रहित; (पुं.) अभ्रक, कपूर, परमात्मा, आत्मा, (अ. पुं.) व्यवहार, व्यसन, टेव, शासन, प्रभाव, समय ।
 अमर्यता—(सं. स्त्री.) निर्मलता, निर्दोषता, स्वच्छता ।
 अमर्यतास—(हिं. पुं.) एक चमकीले पीले फूल का वृक्ष जिसमें डेढ़ फुट लम्बी गोल कलियाँ लगती हैं जिसके भीतर का दूदा औपधियों में प्रयोग किया जाता है ।
 अमर्यतासिया—(हिं. वि.) अमर्यतास के फूल के समान, गन्वकी रंग का ।
 अमर्यपट्टा—(हिं. पुं.) वह अधिकारपत्र जो किसी को कार्य पर नियुक्त करने के लिये दिया जाता है ।
 अमर्यपतत्री—(सं. पुं.) वनकुट्ट, जंगली हंस ।
 अमर्यवत—(हिं. पुं.) चूक, पालक, अमर्यो, एक लता जिसकी टहनियाँ पत्तन दूरी में निलई जाती हैं ।

अमलमणि, अमलरत्न—(सं. पुं.) स्फटिक, विल्वोर ।
 अमला—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी, आमलकी, आंवला; (अ. पुं.) कर्मचारी-वृन्द, अधिकारी-वर्ग ।
 अमलान—(सं. पुं.) एक सदावहार क्षुप विशेष ।
 अमलिन—(सं. वि.) निष्कलंक, निर्मल, स्वच्छ ।
 अमली—(हिं. स्त्री.) इमली; (अ. वि.) कार्य करनेवाला, व्यवहार में लानेवाला, नशेवाज ।
 अमलूक—(हिं. पुं.) एक पहाड़ी वृक्ष जिसका फल खाया जाता है ।
 अमलोनी—(हिं. स्त्री.) नोनियाँ घास जिसकी पत्ती खट्टी होती है ।
 अमलूण—(सं. वि.) जो कोमल या चिकना कठोर ।
 अमस्तक—(सं. वि.) विना मस्तक का, बे-सिर का ।
 अमहर—(हिं. स्त्री.) छोले हुए कच्चे आम की सुखाई हुई फाँक ।
 अमहल—(हिं. वि.) भवनहीन, जिसके पास रहने के लिये घर न हो, व्यापक ।
 अमांस—(सं. वि.) मांसहीन, दुर्बल ।
 अमा—(सं. स्त्री.) अमावस्या, अमावस; (पुं.) आत्मा, घर, यह संसार ।
 अमातना—(हिं. क्रि. स.) निमन्त्रण देना, बुला भेजना ।
 अमातृक—(सं. वि.) मातृहीन, विना माता का ।
 अमात्य—(सं. पुं.) मन्त्री, सचिव ।
 अमात्र—(सं. वि.) मात्रा-रहित, असम्पूर्ण, असीम ।
 अमान—(सं. वि.) विना नाप का, अभिमानरहित, अप्रतिष्ठित, गर्वरहित; (पुं.) बचाव, पनाह ।
 अमानत—(अ. स्त्री.) थाती, धरोहर, अमीन का पद; (मुहा.)—में खयानत-जमानत की रकम खा-जाना ।
 अमानतदार—(अ. पुं.) अमानत रखनेवाला, अमीन ।
 अमानव—(सं. वि.) अमानुष, जो मनुष्य न हो ।
 अमानवीय—(सं. वि.) जो मानवीय न हो ।
 अमाना—(हिं. क्रि. अ.) पूरी तरह से भरा जाना, समाना, अटना, अभिमान दिलाना, वह चलना, प्रसन्न होना ।
 अमानिता—(सं. स्त्री.) लज्जाशीलता, नन्नता ।

अमानी—(हिं. वि.) अभिमानरहित, विना गर्व का; (स्त्री.)—वह भूमि जिसका स्वामी सरकार हो और उसकी ओर से कलक्टर प्रबंध करता हो, भूमि का कोई कार्य जो अपने ही प्रबन्ध में हो, ठेकेदार आदि को न दिया गया हो, भूमिकर जो कृषिफल के अनुसार कम किया गया हो, मनमानी कार्यवाही, अघेर ।
 अमानुष—(सं. वि.) मनुष्य की शक्ति के बाहर, मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध, पैशाचिक; (पुं.) मनुष्य से भिन्न प्राणी, देवता, राक्षस आदि ।
 अमानुषी—(सं. वि.) मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध, पैशाची, पाशविक ।
 अमान्य—(सं. वि.) जो मान, आदर आदि के योग्य न हो ।
 अमाय—(सं. वि.) मायाशून्य, कपटरहित ।
 अमाया—(सं. स्त्री.) भ्रम का अभाव, शुचि, सचाई; (हिं. वि.) निश्चल, कपटहीन, मायारहित ।
 अमार्ग—(सं. पुं.) मार्ग का अभाव, कुमार्ग, बुरी चाल; (वि.) मार्गरहित, बेरोह ।
 अमार्जित—(सं. वि.) अशुद्ध, मलिन, स्वच्छ न किया हुआ ।
 अमावट—(हिं. स्त्री.) आम का सूखा रस जो अनेक तहों में जमाया रहता है, अमरस ।
 अमावना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'अमाना' ।
 अमावस—(हिं. स्त्री.) अमावस्या ।
 अमावसी—(हिं. स्त्री.) देखें 'अमावस्या' ।
 अमावस्या, अमावास्या—(सं. स्त्री.) किसी महीने के कृष्ण पक्ष की पन्द्रहवीं तिथि ।
 अमाह—(हिं. पुं.) आँख का एक रोग जिसमें लाल मांस निकल आता है, नाखूना ।
 अमाही—(हिं. वि.) नाखूना रोग संवधी ।
 अमिट—(हिं. वि.) न मिटनेवाला, अवश्य होनेवाला, स्थायी, अटल ।
 अमित—(सं. वि.) असीम, अपरिमित, बहुत अधिक ।
 अमितलाभ—(सं. पुं.) बुद्ध विशेष; (वि.) असीम प्रमायुक्त ।
 अमितवीर्य—(सं. पुं.) असीम शक्तियुक्त ।
 अमित्र—(सं. पुं.) वैरी, मित्रहीन; (वि.) जिसका कोई मित्र न हो ।
 अमित्रता—(सं. स्त्री.) शत्रुता, वैर ।
 अमिथ्या—(सं. अव्य.) सचमुच ।
 अमिय—(हिं. पुं.) अमृत ।
 अमिय मूरि—(हिं. स्त्री.) अमृतमूल, संजीवनी वृद्धी ।

अमिरती—(हिं. स्त्री.) देखें 'इमरती' ।
 अमिल—(हिं. वि.) न मिलनेवाला, पृथक् ।
 अमिलतास—(हिं. पुं.) देखें 'अमलतास' ।
 अमिलपट्टी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की चौड़ी सिलाई ।
 अमिलित—(सं. वि.) न मिला हुआ, पृथक् ।
 अमिली—(हिं. स्त्री.) इमली, विरोधी, अनुकूलता का अभाव ।
 अमिश्र—(सं. वि.) संयोगहीन, न मिला हुआ ।
 अमिश्रण—(सं. पुं.) मिलावट का न होना ।
 अमिश्रणीय—(सं. वि.) न मिलाने योग्य ।
 अमिश्र राशि—(सं. स्त्री.) गणित में एक से नव तक की संख्या ।
 असिश्चित—(सं. वि.) न मिलाया हुआ, विना मिलावट का ।
 अमिष—(सं. पुं.) संसारी सुख, अकपट, सत्य; (वि.) विना छल का, निश्चल ।
 अभी—(हिं. पुं.) अमृत ।
 अभीकर—(हिं. पुं.) अमृत बरसानेवाला, चन्द्रमा ।
 अभीत—(हिं. पुं.) जो मित्र न हो, शत्रु ।
 अमुक—(हिं. वि.) जब किसी व्यक्ति या पदार्थ का नाम नहीं लिया जाता तब उसके स्थान में 'अमुक' शब्द का प्रयोग होता है, कोई ।
 अमुक्त—(सं. वि.) सम्बद्ध, बँधा हुआ ।
 अमुक्ति—(सं. स्त्री.) मोक्ष का अभाव, स्वतन्त्रता न होना ।
 अमुख—(सं. वि.) मुखरहित, विना मुख का, अव्यग्र, जो व्याकुल न हो ।
 अमुख्य—(सं. वि.) अप्रधान, अधीन ।
 अमुक—(सं. वि.) जो गूंगा न हो, वाचाल, बोलनेवाला, प्रवीण ।
 अमूढ़—(सं. वि.) बुद्धिमान्, जो व्यग्र न हो ।
 अमूर्त—(सं. वि.) जिसका कोई आकार न हो, आकाररहित; (पुं.) परमेश्वर, आत्मा, शिव, आकाश, काल, वायु, दिशा ।
 अमूर्ति—(सं. वि.) मूर्तिरहित, आकृतिहीन, निराकार; (पुं.) विष्णु ।
 अमूर्तिमान्—(सं. वि.) (स्त्री. अमूर्तिमती) मूर्तिरहित, निराकार, अप्रत्यक्ष ।
 अमूल—(सं. वि.) मूलरहित, जिसका आदि कारण न हो, विना जड़ का ।
 अमूलक—(सं. वि.) निर्मूल, मिथ्या, असत्य ।
 अमूल्य—(सं. वि.) मूल्यरहित, जिसका दाम स्थिर न हो, बहुमूल्य, अनमोल ।
 अमृत—(सं. वि.) मरणशून्य, जो मरता न हो, प्रिय, सुन्दर; (पुं.) देवता, इन्द्र, सूर्य, आत्मा, शिव, जल, सुवर्ण, धी, दूध, अन्न, अति स्वादिष्ट पदार्थ, रोग-

नाशक औषधि, घन, बछनाग, वैकुण्ठ, मुक्ति, चमत्कार; -कर- (सं. पुं.) चन्द्रमा; -कुंडली- (सं. स्त्री.) एक प्रकार का वाजा, एक प्रकार का छन्द; -गीत- (सं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द; -गर्भ- (हिं. पुं.) जीव, ब्रह्मा; (सं. वि.) अमृत से भरा हुआ; -त्व- (सं. पुं.) मुक्ति, मरण का अभाव, मोक्ष; -दान- (हिं. पुं.) खाने की वस्तु रखने का दपनेदार वर्तन; -धारा- (सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके पहिले पद में आठ तथा द्वितीय पद में दस अक्षर होते हैं; -ध्वनि- (हिं. स्त्री.) देखें 'अमृतध्वनि'; -ध्वनि- (सं. स्त्री.) चौबीस मात्राओं का एक छन्द विशेष; -फल- (सं. पुं.) परवर, आँवला; -दान- (हिं. पुं.) लाह का रंग किया हुआ मिट्टी का पात्र जो धी, तेल आदि रखने के काम में आता है; -मय- (सं. वि.) अमृत से परिपूर्ण, अमर; -मालिनी- (सं. स्त्री.) दुर्गा देवी; -योग- (सं. पुं.) फलित ज्योतिष का एक शुभ फल देनेवाला योग; -रश्मि- (सं. पुं.) चन्द्रमा; -रसा- (सं. स्त्री.) काला अंगूर; -लोक- (सं. पुं.) स्वर्ग; -वल्लरी- (सं. स्त्री.) गुरुच; -संजीवनी- (सं. स्त्री.) गोरखमुण्डी; -सार- (सं. पुं.) मक्खन, धी।
अमृतांशु- (सं. पुं.) चन्द्रमा।
अमृता- (सं. स्त्री.) आँवला, तुलसी, पीपल, पान, फिटकिरी।
अमृताक्षर- (सं. वि.) अविनस्वर।
अमृताशन- (सं. पुं.) देवता।
अमृतेश- (सं. पुं.) शिव, महादेव।
अमृत्यु- (सं. वि., पुं.) अमर, अमरत्व।
अमृषा- (सं. अव्य.) सचमुच, वस्तुतः।
अमेघ- (सं. वि.) मेघरहित, विना बादल का।
अमेजना- (हिं. क्रि. अ., स.) मिलावट होना, मिला देना।
अमेठना- (हिं. क्रि. स.) देखें 'उमेठना'।
अमेध्य- (सं. वि.) अपवित्र, अशुद्ध, यज्ञादिक के काम में न आनेवाला; (पुं.) मल, विष्ठा, मूत्र आदि।
अमेध्यता- (सं. स्त्री.) अपवित्रता, अशुद्धता।
अमेध्यत्व- (सं. पुं.) देखें 'अमेध्यता'।
अमेय- (सं. वि.) असीम, समझ में न आनेवाला।
अमेव- (हिं. वि.) देखें 'अमेय'।
अमोक्ष- (सं. पुं.) बन्धन, रवतन्त्रता का अभाव।

अमोघ- (सं. वि.) अधिक उत्पन्न करनेवाला, अव्यर्थ, सफल; -दंड- (सं. पुं.) शिव; -बल- (सं. पुं.) महान् शक्ति।
अमोचन- (सं. पुं.) बन्धन।
अमोचनीय- (सं. वि.) छुटकारा न पाने योग्य।
अमोचित- (सं. वि.) आवद्ध, बँधा हुआ।
अमोद- (हिं. पुं.) देखें 'आमोद'।
अमोरी- (हिं. स्त्री.) आम का कच्चा फल।
अमोल- (हिं. वि.) देखें 'अमूल्य'।
अमोलक- (हिं. वि.) अमूल्य, बहुमूल्य।
अमोला- (हिं. पुं.) आम का मूँम से निकला हुआ नया पौधा।
अमोही- (हिं. वि.) निर्मोही, कठोर-हृदय, दयाहीन।
अमोआ- (हिं. पुं.) आम के रस के सदृश रंग; (वि.) इस रंग का।
अमौलिक- (सं. वि.) जो मौलिक न हो, निर्मूल, मिथ्या, झूठा।
अमोवा- (हिं. पुं.) देखें 'अमोआ'।
अम्मा- (हिं. स्त्री.) माँ, माता, महतारी।
अम्मारी- (हिं. स्त्री.) देखें 'अवारी'।
अन्न- (सं. पुं.) आम का फल; -वेतस- (पुं.) अमलवेत।
अम्ल- (सं. वि.) खट्टा; (पुं.) खटाई।
अम्लका- (सं. स्त्री.) खट्टे पालक का शाक।
अम्लकेशर- (सं. पुं.) अनार का वृक्ष।
अम्लता- (सं. स्त्री.) खट्टापन, खटाई।
अम्लपादप- (सं. पुं.) इमली का वृक्ष।
अम्लपित्त- (सं. पुं.) एक रोग जिसमें पित्त के दोष से ख़ाया हुआ पदार्थ खट्टा हो जाता है।
अम्लवृक्ष- (सं. पुं.) इमली का पेड़।
अम्लवेतस- (सं. पुं.) देखें 'अमलवेत'।
अम्लसार- (सं. पुं.) नीबू, चुक, कांजी, अमलवेत।
अम्लोक्त- (सं. वि.) खट्टा किया हुआ।
अम्लान- (सं. वि.) जो कुम्हलाया न हो, प्रफुल्ल, निर्मल, स्वच्छ, मेघरहित।
अम्लोदगार- (सं. पुं.) खट्टी डकार।
अन्हौरौ- (हिं. स्त्री.) छोटी-छोटी फुन्सी जो ग्रीष्म ऋतु में पसीना रुकने से शरीर में सर्वत्र होती है, घमोरी।
अयं- (सं. सर्व.) यह, उत्तका।
अय- (सं. पुं.) पासा, लोहा, अग्नि, दास्य, हथियार; (अव्य. संबोधन) अरे, ओ।
अयत्- (सं. वि.) यत्न न करनेवाला।
अयतेन्द्रिय- (सं. वि.) इन्द्रियों को ब्रह्म में न रखनेवाला।
अयत्न- (सं. पुं.) यत्न का अभाव; (वि.)

यत्नगून्य, प्रयत्न न करनेवाला; -कारी- (वि.) शिथिल।
अयथा- (सं. वि.) अयोग्य, विना यत्न का, मिथ्या, झूठ; (पुं.) अयोग्य कार्य।
अयथापूर्व- (सं. वि.) अभूतपूर्व, साधारण।
अयथाय- (सं. वि.) असत्य, मिथ्या, अवोग्य।
अयथेष्ट- (सं. वि.) इच्छा के विरुद्ध।
अयथोचित- (सं. वि.) जो उचित न हो, अनुपयुक्त।
अयन- (सं. पुं.) गमन, गति, चाल, पथ, अंश, सूर्य तथा चन्द्रमा का दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गमन, जो उत्तरायण तथा दक्षिणायन कहलाता है।
अयनकाल- (सं. पुं.) वह समय जो एक अयन में लगे, छः महीने का समय।
अयन-मंडल- (सं. पुं.) राशिचक्र तथा राशिचक्र में स्थित सूर्य के गमन का मार्ग।
अयन-वृत्त- (सं. पुं.) देखें 'अयन-मंडल'।
अयन-संक्रम- (सं. पुं.) अयन-संक्रांति, मकर और कर्क की संक्रांति।
अयन-संक्रांति- (सं. स्त्री.) कर्क संक्रांति तथा मकर संक्रांति।
अयन-संपात- (सं. पुं.) अयनांश का पतन या योग।
अयनांश- (सं. पुं.) सूर्य की गति का विरोध भाग।
अयश- (सं. पुं.) अपयश, अपवाद, अपकीर्ति।
अयशस्कर- (सं. वि.) अपवादजनक।
अयशस्वी, अयशी- (सं. वि.) अपवादित, दुर्नाम।
अयस्कांड- (सं. पुं.) लोहे का तीर।
अयस्कांत- (सं. पुं.) चुंबक लोहा।
अयस्कार- (सं. पुं.) लोहार।
अयाचक- (सं. वि.) न माँगनेवाला, संतुष्ट।
अयाचित- (सं. वि.) अप्रायित, न माँगा हुआ।
अयाची- (सं. वि.) अयाचक, न माँगनेवाला, संतुष्ट, सम्पन्न, धनिक।
अयाच्य- (सं. वि.) न माँगने योग्य, संतुष्ट, संतुष्ट।
अयान- (सं. पुं.) प्रकृति, स्वभाव; (वि.) गतिहीन, न चलनेवाला, विना सवारी का, जानरहित।
अयानप- (हिं. पुं.) अज्ञानता, भोलापन।
अयानपन- (हिं. पुं.) देखें 'अयानप'।
अयानो- (हिं. वि.) अज्ञानी, अनजान।
अयि- (सं. अव्य.) अरे ! अरे ! यह शब्द नम्बोधन में प्रयुक्त होता है।
अयुक्त- (सं. वि.) अनुचित, अवोग्य,

असंयुक्त, न लगा हुआ, वहिमुख, युक्तिशून्य, आपद्ग्रस्त, गँवार।
 अयुक्तता—(सं.स्त्री.) अयुक्तत्व—(सं.पुं.) अयुक्ति, अप्रयोग, काम से अलग रहना, अनौचित्य।
 अयुक्ति—(सं. स्त्री.) युक्ति का अभाव, अयोग्यता, अप्रवृत्ति, अन्याय।
 अयुग—(सं. वि.) युग्म से भिन्न, जो जूस न हो, ताक, अकेला।
 अयुग—(सं. स्त्री.) जिस स्त्री को एक ही सन्तान उत्पन्न हो।
 अयुग्म—(सं. पुं.) विपम, ताक, अकेला, जो जोड़ा न हो।
 अयुग्मवाण—(सं. पुं.) कामदेव।
 अयुत—(सं.वि.) असम्बद्ध, न मिला हुआ; (पुं.) दस हजार की संख्या।
 अयुद्ध—(सं. पुं.) युद्ध का अभाव, शान्ति, मेल; (वि.) युद्ध न करता हुआ।
 अयोग—(सं. पुं.) योग का अभाव, जुदाई, रोग के निदान के विरुद्ध चिकित्सा, ज्योतिष के अनुसार तिथि, वार इत्यादि का बुरा योग, कुसमय, अकाल, विक्षेप, अयोग्यता, संकट, कष्ट; (वि.) असंयुक्त, अप्रशस्त, बुरा, जिस वाक्य का अर्थ स्पष्ट विदित न हो; (हिं. वि.) अयोग्य।
 अयोगी—(सं.पुं.) योग न जाननेवाला मनुष्य।
 अयोग—(सं. पुं.) लोहे का काम करनेवाला, लोहार।
 अयोग्य—(सं. वि.) जो योग्य न हो, अक्षम, अनुचित, अनुपयुक्त, निष्प्रयोजन, निरवयव, अमूर्त, नित्य।
 अयोग्यता—(सं. स्त्री.) अक्षमता।
 अयोजन—(सं. पुं.) वियोग।
 अयोग्य—(सं. पुं.) लोहार का बड़ा हथौड़ा।
 अयोध्य—(सं. वि.) जिससे कोई युद्ध न कर सके।
 अयोनि—(सं.वि.) योनि से उत्पन्न न होनेवाला, अजन्य, नित्य; (पुं.) ब्रह्मा, शिव।
 अयोक्तक—(सं.वि.) अयुक्तिपूर्ण, अयोग्य, असमान।
 अरंड—(हिं. पुं.) एरंड, रेंड, रेंडी।
 अर—(हिं. स्त्री.) हठ, जिद।
 अरइल—(हिं. वि.) अड़ियल, ठिठकनेवाला, रकनेवाला।
 अरई—(हिं. स्त्री.) गाड़ी हाँकनेवाले की लोहे की नोकवाली छोटी छड़ी।
 अरकटी—(हिं. पुं.) पतवार घुमानेवाला, मांझी।
 अरकना—(हिं.क्रि.अ.) टक्कर खाना, फट जाना, लुढ़क जाना।

अरकना-चरकना—(हिं. क्रि. अ.) टाल-मटोल करना, खींचातानी करना, ध्यान न देना।
 अरकला—(हिं.पुं.) अर्गला, रोक, सिकड़ी।
 अरकाटी—(हिं. पुं.) टापुओं में भेजे जानेवाले कुली।
 अरक्त—(सं. पुं.) लाक्षा, लाह।
 अरक्षित—(सं. वि.) रक्षा न किया हुआ, अपोषित, अनाश्रय।
 अरग, अरगजा—(हिं. पुं.) पीले रंग का एक सुगन्धित द्रव्य जो केशर, चन्दन, कपूर इत्यादि को मिलाने से बनता है। इसको लोग मस्तक और शरीर में लगाते हैं।
 अरगजी—(हिं. वि.) अरगजा के समान रंगवाला।
 अरगट—(हिं.वि.) पृथक्, भिन्न, अलग, जुदा।
 अरगनी—(हिं. स्त्री.) वस्त्र इत्यादि टाँगने की रस्सी या लकड़ी।
 अरगल—(हिं. पुं.) देखें 'अर्गल'।
 अरगाना—(हिं. क्रि. अ., स.) पृथक् करना, जुदा होना, देखें 'अलगाना'।
 अरघ—(हिं. पुं.) देखें 'अर्घ'।
 अरघट्ट—(सं. पुं.) कुएँ से जल निकालने का यन्त्र, रहट।
 अरघा—(हिं. पुं.) अर्घ देने का पात्र, शिवलिंग की जलघरी, कुएँ की जगत पर से पानी निकालने की नाली।
 अरघान—(हिं.पुं.) आघ्राण, गन्ध, महँक।
 अरचन—(हिं. पुं.) देखें 'अर्चन'; (हिं. स्त्री.) अड़चन, झमेला।
 अरचना—(हिं.क्रि.स.) पूजा करना।
 अरज—(हिं. स्त्री.) देखें 'अर्ज'।
 अरजुन—(हिं. पुं.) देखें 'अर्जुन'।
 अरझना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'अरुझना'।
 अरणि, अरणी—(सं. पु., स्त्री.) वड़ई के वरमे के समान एक यन्त्र जो मथानी की तरह घुमाया जाता है और छेद के नीचे रक्वा हुआ कुशा जल उठता है, चकमक पत्थर।
 अरण्य—(सं.पुं.) वन, जंगल; -कदली—(सं. स्त्री.) जंगली केला; -गत—(सं.वि.) वन में पहुँचा हुआ; -चंद्रिका—(सं. स्त्री.) व्यर्थ की सजावट; -चर—(सं. वि.) वन-चर, जंगल में रहनेवाला; -माजौर—(सं.पुं.) वनविलाव; -रोदन—(सं.पुं.) निरर्थक रुलाई, निष्फल बात, ऐसी बात जिस पर कोई ध्यान न दे; -वासी—(सं. वि.) वनवासी, जंगल का रहनेवाला।
 अरण्याध्यक्ष—(सं. पुं.) वन-रक्षक।

अरत—(सं. वि.) मन्द, धीमा।
 अरति—(सं. स्त्री.) राग का अभाव, चिन्ता, अनिच्छा, वियोग।
 अरथ—(सं. वि.) स्थिररहित, विना स्थ का; (हिं. पुं.) अर्थ, अभिप्राय।
 अरथाना—(हिं. क्रि. स.) अर्थ लगाना, व्याख्या करना।
 अरथी—(हिं. स्त्री.) शव ले जाने का सीढ़ी के आकार का लकड़ी का ढाँचा, टिकठी।
 अरद—(सं. वि.) दन्तहीन, पोपला, विना दाँत का।
 अरदना—(हिं. क्रि. स.) पैर से कुचलना, रौंदना, लात मारना, बध करना।
 अरदली—(हिं. पुं.) किसी हाकिम का चपरासी।
 अरदास—(हिं. स्त्री.) प्रार्थना-पत्र, निवेदनयुक्त उपहार।
 अरधंग—(हिं. पुं.) देखें 'अर्धांग'।
 अरधंगी—(हिं. वि.) देखें 'अर्धांगी'।
 अरध—(हिं. पुं.) देखें 'अर्ध'।
 अरन—(हिं. पुं.) नोकदार निहाई, देखें 'अरण्य'।
 अरना—(हिं. पुं.) जंगली भैंसा; (हिं. क्रि. अ.) अड़ना, रुकना।
 अरनी—(हिं.स्त्री.) अरणी, एक पहाड़ी वृक्ष।
 अरपन—(हिं. पुं.) देखें 'अर्पण'।
 अरपना—(हिं.क्रि.स.) अर्पण करना, भेंट देना।
 अरव—(हिं.वि.) अर्बुद, सौ करोड़ की संख्या; (पुं.) घोड़ा, इन्द्र, एक देश का नाम।
 अरबर—(हिं. वि.) क्रमरहित, असाधारण अड़बड़।
 अरबराना—(हिं. क्रि. अ.) व्याकुल होना, घबड़ाना, मयभीत होना, डावाँडोल होना, लड़खड़ाना।
 अरवरी—(हिं. स्त्री.) भय, घबड़ाहट।
 अरवी—(हिं. वि.) अरव देश का; (पुं.) अरव देश का निवासी; (स्त्री.) अरव देश की माया।
 अरवीला—(हिं. वि.) साधारण, वैसमझ।
 अरभक—(हिं. पुं.) देखें 'अर्भक'।
 अरमण—(सं. वि.) आनन्द न लेनेवाला।
 अरमणीयता—(सं. स्त्री.) अप्रियता।
 अरर—(हिं. अव्य.) आश्चर्यसूचक शब्द।
 अरराना—(हिं. क्रि. अ.) अरर शब्द के साथ गिर पड़ना, फिसलना, टूट पड़ना, एकाएक गिर जाना, भरराना।
 अरवन—(हिं. पुं.) कच्ची कटनेवाली फसल।
 अरवल—(हिं. पुं.) घोड़े की वह अशुभ भौरी जो उसके कान की जड़ में गर्दन के पास होती है।

अरवा-(हि. पुं.) विना उवाले धान से निकाला हुआ चावल ।

अरवाती-(हि. स्त्री.) ओरी ।

अरविद-(सं. पुं.) पद्म, कमल, सारस पक्षी;

-नाभि-(पुं.) विष्णु; -बन्धु-(पुं.) सूर्य;

-मोनि-(पुं.) ब्रह्मा ।

अरवी-(हि. स्त्री.) एक कन्द विशेष जिसकी तरकारी बनाकर खाई जाती है ।

अरस-(सं. वि.) विना स्वाद का, तीरस, रसवून्य, असार, अनाड़ी; (पुं.) आलस्य, सुस्ती ।

अरसना-(हि. क्रि. अ.) शिथिल होना, मन्द होना; -परसना-(हि. क्रि. स.) भेंट करना, आर्तिगन करना ।

अरस-परस-(हि. पुं.) देखादेखी, आँख मुदौबल का खेल ।

अरसात-(हि. पुं.) चौबीस अक्षरों का एक छन्द विशेष ।

अरसाना-(हि. क्रि. अ.) अलसाना, निद्रामग्न होना, नींद लगना ।

अरसिक-(सं. वि.) अरसज्ञ, जो कविता के रस को न समझता हो ।

अरसी-(हि. स्त्री.) अलसी, तीसी ।

अरसीला-(हि. वि.) अलस, आलस्य से भरा हुआ ।

अरहट-(हि. पुं.) देखें 'रहट' ।

अरहन-(हि. पुं.) वेसन या आटा जो तरकारी इत्यादि में डाला जाता है ।

अरहना-(हि. स्त्री.) पूजा ।

अरहर-(हि. स्त्री.) एक द्विदल अन्न जिसकी दाल खाई जाती है, तुवरी ।

अरहित-(सं. वि.) पूरा, भरा हुआ, सम्पन्न ।

अराग-(सं. वि.) उदासीन, विरक्त, धीमा ।

अराज-(हि. वि.) विना राजा का; (पुं.) अराजकता ।

अराजक-(सं. वि.) विना राजा का, राज-शून्य ।

अराजकता-(सं. स्त्री.) राजा न रहने की स्थिति, शासन का अभाव, विप्लव, अशान्ति ।

अरात, अराति-(सं. पुं.) शत्रु, रिपु, काम, क्रोधादि ६ रिपु, ६ की संख्या;

-भंग-(पुं.) शत्रु का पराभव ।

अराधना-(हि. क्रि. स.) उपासना करना, पूजा करना, जप करना ।

अराहट, अराहोट-(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष, तीखुर ।

अराल-(सं. पुं.) मतवाला हाथी; (वि.) चक्र, देहा ।

अराला-(सं. स्त्री.) पुंश्चली स्त्री ।

अरावल-(हि. पुं.) देखें 'हरावल' ।

अरि-(सं. पुं.) शत्रु, वैरी, चक्र, ६ की संख्या, जन्मकुण्डली में छठा स्थान,

इंस्वर, दुर्गन्धी, खैर; -कुल-(पुं.) शत्रु का वंश; -केशी-(पुं.) श्रीकृष्ण; -घ्न

(पुं.) शत्रु का नाश करनेवाला; -ता-

(स्त्री.) शत्रुता; -त्व-(पुं.) देखें 'अरिता'; -मर्दन-(वि.) शत्रु

को दमन करनेवाला; -मित्र-(पुं.) शत्रु का सहायक; -लोक-(पुं.) शत्रु

का देश; -हन-(हि. पुं.) शत्रुघ्न; -हा-(वि.) शत्रु का नाश करने-

वाला; (पुं.) शत्रुघ्न ।

अरियाना-(हि. क्रि. स.) तिरस्कारयुक्त शब्द का प्रयोग करना, अरे या तू-तू कहकर बोलना ।

अरिल्ल-(हि. पुं.) सोलह मात्राओं का एक छन्द ।

अरिवन-(हि. पुं.) रस्सी का फन्दा जिसको लोटे आदि में लगाकर कुएँ से पानी खींचा जाता है ।

अरिष्ट-(सं. पुं.) अशुभ चिह्न, दुर्भाग्य, विपत्ति, पीड़ा, दुःख, मारणकारक

योग, रीठे का वृक्ष, लहसुन, औषधियों से बना हुआ क्वाथ, मठा, सूतिकागृह;

(वि.) अशुभ, विनाशी, बुरा ।

अरिष्टक-(सं. पुं.) रीठे का पेड़, नीम का वृक्ष, मद्य ।

अरिष्टनेमी-(सं. पुं.) विनता से उत्पन्न कश्यप ऋषि का पुत्र ।

अरिष्ट लक्षण-(सं. पुं.) मृत्यु के लक्षण ।

अरिष्टा-(सं. स्त्री.) कुटकी, मद्य ।

अरिष्टिका-(सं. स्त्री.) रीठी, कुटकी ।

अरी-(हि. अव्य.) स्त्रियों के लिये सम्बोधन का शब्द; (वि.) अटकी हुई ।

अरीठा-(हि. पुं.) अरिष्ट, रीठी ।

अरीत-(हि. स्त्री.) कुरीति, बुरी चाल ।

अरंघती-(सं. स्त्री.) वसिष्ठ ऋषि की पत्नी, सप्तभि-मंडल के पास का एक छोटा सा तारा ।

अरु-(हि. अव्य.) और ।

अरुई-(हि. स्त्री.) देखें 'अरवी' ।

अरुचि-(सं. स्त्री.) भोजन की अनिच्छा, घृणा; (वि.) इच्छाहीन, निस्पृह, अभिलाषा न रखनेवाला ।

अरुचिकर-(सं. वि.) जो अच्छा न लगे, जिसको खाने की इच्छा न हो ।

अरुचिर-(सं. वि.) घृणित, धिनीना ।

अरुज-(सं. वि.) रोगशून्य, स्वल्प ।

अरुजना-(हि. क्रि. अ.) एक में एक मिल जाना, उलझना, झगड़ना, चलते-चलते रुक जाना ।

अरुजाना-(हि. क्रि. स.) उलझाना, फन्दा लगाना ।

अरुण-(सं. पुं.) सूर्य का सारथी, गरुड़, एक दानव का नाम, लाल रंग, प्रातः-

काल, तड़का, पुच्छल तारा, सिन्दूर, केसर, लाल कमल, अफीम, मजीठ,

गुड़, एक प्रकार का विपला कीड़ा, सहुड़ का वृक्ष ।

अरुणचूड़-(सं. पुं.) कुक्कुट, मुर्गा ।

अरुणता-(सं. स्त्री.) सुर्खी, लाली ।

अरुणनाग-(सं. पुं.) मुर्दाशंख ।

अरुणनेत्र-(सं. पुं.) कोयल, कवूतर ।

अरुणप्रिया-(सं. स्त्री.) सूर्य की भार्या, अप्सरा ।

अरुण-लोचन-(सं. पुं.) कवूतर, कोयल; (वि.) लाल आँखोंवाला ।

अरुणशिखा-(सं. पुं.) कुक्कुट, मुर्गा ।

अरुणा-(सं. स्त्री.) कदंब का फूल, घुमची, गोरखमुण्डी, लाल रंग की गाय ।

अरुणाई-(हि. स्त्री.) अरुणता, ललाई ।

अरुणाग्रज-(सं. पुं.) गरुड़ ।

अरुणित-(सं. वि.) रक्तवर्ण का, लाल रंगा हुआ ।

अरुणिमा-(सं. स्त्री.) लाली, रक्तता ।

अरुणोक्त-(सं. वि.) लाल रंगा हुआ ।

अरुणोदधि-(सं. पुं.) लाल सागर ।

अरुणोदय-(सं. पुं.) सूर्योदय से चार दण्ड पहिले का समय, तड़का, पी फटने का समय, ब्राह्ममूहूर्त ।

अरुणोपल-(सं. पुं.) पद्मराग मणि, लाल ।

अरुद्ध-(सं. वि.) अनिवारित, न रोका हुआ ।

अरुनाना-(हि. क्रि. अ. स.) लाल होना, लाली चढ़ाना ।

अरुनाई-(हि. स्त्री.) अरुणाई, लालिमा ।

अरुनारा-(हि. वि.) अरुण, लाल ।

अरुनोदय-(हि. पुं.) देखें 'अरुणोदय' ।

अरुना-(हि. क्रि. अ.) लचकना, मुड़ना ।

अरुवा-(हि. पुं.) एक लता जिसकी जड़ में कन्द बैठता है जो साया जाता है, उल्लू पक्षी ।

अरुप-(सं. पुं.) सूर्य, ज्वाला, दिन, मेघ ।

अरुपी-(सं. स्त्री.) उपाकाल, तड़का ।

अरुस-(हि. पुं.) देखें 'अरुना' ।

अरुक्ष-(सं. वि.) जो दगा न हो, चिकना ।

अरुक्षता-(सं. स्त्री.) सिन्यता, चिकनाहट ।

अरुसना-(हि. क्रि. स.) झगड़ना ।

अरुप-(सं. वि.) कुटप, नद्दा ।

अरूपक—(स. वि.) अलंकाररहित ।
 अरूपता—(स. स्त्री.) असमानता ।
 अरुर्ना—(हि.क्रि.अ.) क्लेश उठाना, पीड़ा होना ।
 अरुलना—(हि. क्रि. अ.) छेदना, विदारित होना, पीड़ित होना ।
 अरुस—(हि. पुं.) देखें 'अडूसा' ।
 अरे—(सं. अव्य.) ए ! ओ ! देख !
 आश्चर्यसूचक अव्यय, (नीच व्यक्ति के लिये संबोधित होता है ।)
 अरेरना—(हि.क्रि.स.) रगड़ना, घिसना, मलना ।
 अरेरे—(सं. अव्य.) अवे ! ओवे !
 आश्चर्यसूचक अव्यय ।
 अरोक—(हि. वि.) बिना रोक का, जो रुकता न हो ।
 अरोग—(सं. वि.) रोग-शून्य, आरोग्य ।
 अरोच—(हि. पुं.) अरुचि ।
 अरोचक—(सं. पुं.) वह रोग जिसमें इच्छा और क्षुधा रहने पर भी खाया न जाय; (वि.) अरुचिकर ।
 अरोड़ा—(हि. पुं.) पंजाब की क्षत्री जाति ।
 अरोदन—(सं. पुं.) रोने का अभाव, न रोना ।
 अरोपण—(सं. पुं.) न रोपने की स्थिति ।
 अरोष—(सं. वि.) क्रोधरहित, रोष न दिखलानेवाला ।
 अरोहना—(हि. क्रि. अ.) आरोहण करना, चढ़ना ।
 अरौद्र—(सं. वि.) जो भयंकर न हो, सुन्दर, ललित ।
 अर्क—(सं. पुं.) सूर्य, इन्द्र, विष्णु, क्वाथ, काढ़ा, अन्न, वज्र, रविवार, पंडित, वृक्ष, मन्त्र, वारह की संख्या, अग्नि, किरण, मदार का वृक्ष, स्फटिक, ताँबा, लाल फल; (अ. पुं.) अरक, रस ।
 अर्ककांता—(सं. स्त्री.) अड़हुल का फूल, पद्म ।
 अर्कक्षीर—(सं. पुं.) मदार का दूध ।
 अर्कचंदन—(सं. पुं.) लाल चन्दन ।
 अर्कज—(सं. पुं.) यम, शनि, दोनों अश्विनीकुमार, कर्ण ।
 अर्कजा—(सं. स्त्री.) यमुना नदी, ताप्ती नदी ।
 अर्कतनय—(सं. पुं.) कर्ण, वैवस्वत मनु ।
 अर्कतनया—(सं. स्त्री.) देखें 'अर्कजा' ।
 अर्कत्व—(सं. पुं.) चमक, लाली ।
 अर्कदिन—(सं. पुं.) सूर्य का दिन, रविवार ।
 अर्कपाद—(सं. पुं.) सूर्यकान्तमणि ।
 अर्कबंधु—(सं. पुं.) पद्म, कमल ।
 अर्कवेद—(सं. पुं.) सूर्यवेदी गृह, जिस घर का सहन पूरव-पश्चिम लम्बा होता है ।
 अर्कव्रत—(सं. पुं.) माघ शुक्ला सप्तमी को किया जानेवाला व्रत, प्रजा की

वृद्धि के लिये राजा का कर लेना ।
 अर्कसुता—(सं. स्त्री.) यमुना नदी ।
 अर्कौय—(सं. वि.) सूर्य सम्बन्धी ।
 अर्कौपल—(सं. पुं.) सूर्यकान्तमणि, पद्म-रागमणि ।
 अर्गजा—(हि. पुं.) देखें 'अरगजा' ।
 अर्गल—(सं. पुं.) किवाड़ के पीछे लगाने का डंडा, अगरी, व्योड़ा, रोक, प्रतिवन्ध, चटखनी, कपाट, किवाड़, रंगदार वादल जो प्रातःकाल तथा संध्या को पूर्व में देख पड़ता है, मांस ।
 अर्गला—(सं. स्त्री.) किवाड़ बन्द करके इसके पीछे अड़ाने की लकड़ी, व्योड़ा, अगरी, हाथी बाँधने की लोहे की सिकड़ी, रुकावट, अवरोध, देवी-माहात्म्य के पाठ में पहिला स्तोत्र ।
 अर्गलिका—(सं. स्त्री.) चटखनी, विल्ली, कपाट बन्द करने का खटका ।
 अर्गलित—(सं. वि.) सिकड़ी से बन्द किया हुआ ।
 अर्गलीय—(सं. वि.) अर्गला संबंधी ।
 अर्घ—(सं. पुं.) मूल्य, दाम, पूजा का उपचार, जलदान, सम्मुख पानी गिराना, उपहार, भेंट, हाथ धोने के लिये जल देना, एक प्रकार का मोती; —दान—(सं. पुं.) अर्घ-समर्पण, भेंट; —पात्र—(सं. पुं.) अर्घ देने का पात्र, अर्घा ।
 अर्घा—(हि. पुं.) अर्घ देने का पात्र, जलधरी ।
 अर्घ्य—(सं. वि.) पूजनीय, मूल्यवान्, उपहार देने योग्य; (पुं.) पूजा करने के लिये जल, दूर्वा इत्यादि उपकरण ।
 अर्चक—(सं. वि.) पूजक, पूजा करनेवाला ।
 अर्चन—(सं. पुं.) पूजन, पूजा, सत्कार ।
 अर्चना—(सं. स्त्री.) पूजा, आदर, सत्कार ।
 अर्चनीय—(सं. वि.) पूजा करने योग्य, पूजनीय, सत्कार करने योग्य ।
 अर्चमान—(सं. वि.) अर्चनीय ।
 अर्चा—(सं. स्त्री.) प्रतिमा, मूर्ति, पूजा ।
 अर्चि—(सं. स्त्री.) अग्नि की लपट, चमक ।
 अर्चित—(सं. वि.) पूजित, आदर किया हुआ ।
 अर्चिमान—(सं. वि.) प्रकाशमान; (पुं.) सूर्य ।
 अर्च्य—(सं. वि.) पूजनीय, आदरणीय ।
 अर्जन—(सं. पुं.) उपार्जन, संग्रह, धरोहर, संग्रह करना, कमाना ।
 अर्जनीय—(सं. वि.) अर्जन करने योग्य, संग्रहणीय ।
 अर्जित—(सं. वि.) संग्रहीत, उपार्जन किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ, कमाया हुआ ।
 अर्जुन—(सं. पुं.) एक बड़ा वृक्ष, करवीर,

काहू, मोर, श्वेतवर्ण, नेत्र का एक रोग, श्वेत कनेर, पाण्डु के तृतीय पुत्र का नाम, पार्थ, सहस्रार्जुन ।
 अर्जुनक—(सं. वि.) अर्जुन संबंधी ।
 अर्जुनी—(सं. स्त्री.) दूती, कुटनी, श्वेत गाय, उषा ।
 अर्ण—(सं. पुं.) साखू का पेड़, तरंग, लहर, अक्षर, जल, एक प्रकार का छन्द ।
 अर्णभव—(सं. पुं.) शंख ।
 अर्णव—(सं. पुं.) सूर्य, इन्द्र, समुद्र, तरङ्ग, वायुमण्डल, चार की संख्या; (वि.) व्याकुल, आनन्दरहित, फेनयुक्त ।
 अर्णव पोत—(सं. पुं.) समुद्र में चलनेवाला जहाज ।
 अर्णवोद्भव—(सं. पुं.) चन्द्रमा, अमृत ।
 अर्णवोद्भवा—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी ।
 अर्णा—(सं. स्त्री.) नदी ।
 अर्ति—(सं. स्त्री.) पीड़ा ।
 अर्थ—(सं. पुं.) शब्द की शक्ति द्वारा बोधित पदार्थ, अभिप्राय, प्रयोजन, धन, निमित्त, प्रकार, फल, अभिलाषा, इन्द्रियो का विषय, वस्तु ।
 अर्थकर—(सं. वि.) धन का साधक, लाभकारी, उपयोगी, रुपया देनेवाला ।
 अर्थकृच्छ्र—(सं. पुं.) धन का कष्ट ।
 अर्थचितक—(सं. पुं.) राज्य के आय-व्यय की चिन्ता करनेवाला मन्त्री ।
 अर्थजात—(सं. वि.) धनाढ्य ।
 अर्थज्ञ—(सं. वि.) प्रयोजन जाननेवाला ।
 अर्थदंड—(सं. पुं.) वह धन जो अपराधी से दण्ड के रूप में लिया जावे ।
 अर्थना—(सं. स्त्री.) भिक्षा, भोख ।
 अर्थनीय—(सं. वि.) याचना के योग्य ।
 अर्थपति—(सं. पुं.) अवीश्वर, कुवेर, धनिक ।
 अर्थपिशाच—(सं. वि.) बहुत बड़ा कृपण ।
 अर्थप्राप्ति—(सं. स्त्री.) धन का आगम, अभिप्राय-सिद्धि ।
 अर्थबुद्धि—(सं. वि.) स्वार्थी, अपना अभिप्राय साधनेवाला ।
 अर्थभावना—(सं. स्त्री.) धन की चिन्ता ।
 अर्थमंत्री—(सं. पुं.) देखें 'अर्थसचिव' ।
 अर्थलाभ—(सं. पुं.) धन की प्राप्ति ।
 अर्थलोभ—(सं. पुं.) धन की अभिलाषा ।
 अर्थवाद—(सं. पुं.) प्रशंसनीय वाक्य, निन्दार्थ कथन, चित्त को अन्य विषय की ओर आकर्षित करने के लिये कहा हुआ वाक्य ।
 अर्थवित्त—(सं. पुं.) अर्थशास्त्रज्ञ ।
 अर्थबुद्धि—(सं. स्त्री.) धन-संचय ।
 अर्थवेद—(सं. पुं.) शिल्पशास्त्र, कारीगरी ।
 अर्थशास्त्र—(सं. पुं.) अर्थनीति-विषयक

वह शास्त्र जिसमें धन के उपार्जन, रक्षण और वृद्धि के सिद्धान्त बतलाये गये हों।
 अर्थ-संचय-(सं.पुं.) धन एकत्रित करना।
 अर्थसचिव-(सं.पुं.) राज्य के आर्थिक विषयों की देखभाल करनेवाला मंत्री।
 अर्थसमाहार-(सं.पुं.) शब्द या वाक्य के अर्थ का संक्षेप।
 अर्थसिद्धि-(सं. स्त्री.) तात्पर्य की सिद्धि, धन की सिद्धि।
 अर्थहर-(सं.पुं.) तस्कर, चोर।
 अर्थहीन-(सं. वि.) धनहीन, दरिद्र, अमिप्रायरहित।
 अर्थांतर-(सं.पुं.) दूसरा अर्थ या आशय।
 अर्थांतरव्यास-(सं.पुं.) वह अलंकार जिसमें एक प्रकार के अर्थ द्वारा अन्य प्रकार के अर्थ का समर्थन करने का प्रयत्न होता है।
 अर्थागम-(सं.पुं.) धनोपार्जन, आय।
 अर्थात्-(सं. अव्य.) यह आशय है, अन्य विषयों में, वस्तुतः।
 अर्थाधिकार-(सं.पुं.) कोषाध्यक्ष का काम।
 अर्थाधिकारी-(सं.पुं.) कोषाध्यक्ष।
 अर्थाना-(हि. क्रि.सं.) अर्थ लगाना, समझाना।
 अर्थानुवाद-(सं.पुं.) अर्थ का अनुवाद, उल्टा।
 अर्थपत्ति-(सं. स्त्री.) भीमांसा मत के अनुसार वह प्रमाण जिसमें प्रगट रूप से किसी विषय को प्रकाशित न करके केवल शब्द द्वारा ही विषय की सिद्धि होती है, वह अलंकार जिसमें एक बात के कथन से दूसरी बात सिद्ध की जाती है।
 अर्थालंकार-(सं.पुं.) वह अलंकार जिसमें अर्थ का गौरव दिखलाया जाता है।
 अर्थित-(सं. वि.) याचित, माँगा हुआ।
 अर्थिता-(सं. स्त्री.) याचना, मिश्रकृत्ति।
 अर्थी-(सं. वि.) याचक, माँगनेवाला, इच्छा करनेवाला, प्रयोजन की आकांक्षा करनेवाला; (पुं.) बादी, सेवक, अनुजीवी, धनी।
 अर्थोपार्जन-(सं.पुं.) धन या सम्पत्ति की प्राप्ति।
 अर्थेन-(सं.पुं.) याचन, पीड़ा, हत्या, गमन, जाना।
 अर्थेना-(हि. क्रि.सं.) पीड़ा देना, कष्ट देना।
 अर्थेली-(हि.पुं.) देखें 'अर्थेली'।
 अर्थित-(सं. वि.) पीड़ित।
 अर्थ, अर्थे (सं. वि.) दो समान टुकड़ों में से एक, आधा।
 अर्थक-(सं.पुं.) जलसर्प, डोंडहा।
 अर्थकृत-(सं. वि.) आधा किया हुआ।
 अर्थकोटि-(सं. स्त्री.) आधा करोड़।

अर्थकोश-(सं.पुं.) आधा कोश, एक मील।
 अर्थगोल-(सं.पुं.) वृत्त का आधा भाग।
 अर्थचंद्र-(सं.पुं.) आधा चन्द्रमा, नख का चिह्न, गलहस्त गरदनियर्था, एक प्रकार का वाण, मोर के पंख की आँख, चन्द्रविंदु, अष्टमी का चन्द्रमा।
 अर्थचंद्राकार-(सं.वि.) आधे चन्द्रमा के आकार का।
 अर्थजल-(हि.पुं.) शव को नहलाना।
 अर्थतनु-(सं.पुं.) आधा शरीर।
 अर्थदग्ध-(सं. वि.) आधा जला हुआ, झुलसा हुआ।
 अर्थ-दिन, अर्थ-दिवस-(सं.पुं.) आधा दिन, दोपहर।
 अर्थ-नयन-(सं.पुं.) दिव्य चक्षु, ज्ञान-चक्षु, तीसरी आँख जो देवताओं के भ्रूमध्य में होती है।
 अर्थ-नारीश्वर-(सं.पुं.) आधे पुरुष और आधे स्त्री की आकृति वाले शिव।
 अर्थनिशा-(सं. स्त्री.) अर्धरात्रि, आधी रात।
 अर्थ-पल-(सं.पुं.) चार तोले का परिमाण।
 अर्थ-पारावत-(सं.पुं.) वनकुक्कुट, तीतर।
 अर्थपूर्ण-(सं. वि.) आधा भरा हुआ।
 अर्थ-प्रहर-(सं.पुं.) आधा पहर, डेढ़ घंटे का समय।
 अर्थ-प्रादेश-(सं.पुं.) आधे वित्त की नाप।
 अर्थ-भाग-(सं.वि.) खण्ड, टुकड़ा, आधा अंश या भाग।
 अर्थ-भाजू-(सं. वि.) आधे का अंशधारी।
 अर्थ-मागवी-(सं. स्त्री.) प्राकृत भाषा जो प्राचीन समय में मथुरा और पटना के बीच में बोली जाती थी।
 अर्थसात्रा-(सं. स्त्री.) आधा परिमाण।
 अर्थ-मास-(सं.पुं.) आधा महीना, एक पक्ष।
 अर्थमुष्टि-(सं. स्त्री.) आधी मुट्ठी।
 अर्थ-यान-(सं.पुं.) दिन या रात का आठवाँ भाग, डेढ़ घंटा।
 अर्थ-रात्र-(सं.पुं.) आधी रात।
 अर्थ-व्यास-(सं.पुं.) वृत्त की त्रिज्या।
 अर्थ-रात-(सं.पुं.) पचास की संख्या।
 अर्थ-शब्द-(सं. वि.) धीमे शब्दवाला।
 अर्थ-शेष-(सं.वि.) आधा बाकी बचा हुआ।
 अर्थ-समवृत्त-(सं. वि.) एक वृत्त विशेष जिसके पहिले, तीसरे तथा दूसरे और चौथे पाद समान होते हैं, सोरठा।
 अर्धांग-(सं.पुं.) शरीर का आधा भाग, पक्षाघात, लकवा रोग जिसमें आधा अंग चेतनाशून्य हो जाता है।
 अर्धांगिनी-(सं. स्त्री.) स्त्री, पत्नी।
 अर्धांगी-(सं.पुं.) शिव, महादेव।

अर्धांश-(सं.पुं.) अर्ध भाग, आधा अंश।
 अर्धाकार-(सं.पुं.) 'अ' अक्षर का आधा भाग (ऽ)।
 अर्धाव- (सं.पुं.) आधे का आधा, चौथाई भाग।
 अर्धाली-(सं.पुं.) चौपाई का आधा भाग।
 अर्धेन्द्रु-(सं.पुं.) आधा चन्द्रमा, गरदनियर्था।
 अर्धोक्त-(सं. वि.) आधा कहा हुआ, स्पष्ट न बतलाया हुआ।
 अर्धोक्ति-(सं. स्त्री.) आधा कथन।
 अर्धोदक-(सं.पुं.) कमर तक पहुँचने-वाला जल।
 अर्धोदय-(सं.पुं.) एक पर्व जो माघ मास की अमावस्या को रविवार, व्यतीपात और श्रवण नक्षत्र पड़ने पर होता है।
 अर्धोदित-(सं. वि.) आधा निकला हुआ, आधा कहा हुआ।
 अर्पण-(सं.पुं.) दान, भेंट, स्थापन, त्याग।
 अर्पणीय-(सं. वि.) अर्पण करने योग्य।
 अर्पित-(सं. वि.) दिया हुआ, स्थापित।
 अर्धद्वै-(हि.पुं.) सम्पत्ति, विभव।
 अर्धुद-(सं.पुं.) दस करोड़ की संख्या, मेघ, एक असुर का नाम, एक पर्वत का नाम, दो मास का गर्भ, शरीर के किसी भाग में गुल्म या गाँठ पड़ जाना।
 अर्भक-(सं.पुं.) बालक, बच्चा; (वि.) सूक्ष्म, कृश, मूख, दुबला, पतला।
 अर्धर- (हि.पुं.) व्यर्थ की चर्ता।
 अर्धमा-(सं.पुं.) सूर्य, मदार का पेड़, यम, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, बारह आदित्यों में से एक।
 अर्धती-(सं. स्त्री.) घोड़ी, कुटनी।
 अर्धाकु-(सं. अव्य.) इधर, इस ओर, बगल में, समीप, नीचे, पहिले।
 अर्धाकु-काल-(सं.पुं.) पिछला समय।
 अर्धाचीन-(सं.वि.) हाल का, आवृत्तिक, नूतन, नया।
 अर्धाचीनता-(सं. स्त्री.) नवीनता, नयापन।
 अर्श-(सं. वि.) अश्लील, फूहड़; (पुं.) हानि, ववासीर रोग; (अ.पुं.) स्वर्ग, आकाश; -सूदन-(सं.पुं.) मुरन।
 अर्शोज-(सं.पुं.) मगन्दर रोग।
 अर्ह-(सं.पुं.) इन्द्र, विष्णु, पूजा, मूल्य, सुवर्ण; (वि.) योग्य, पूजनीय, मूल्यवान्।
 अर्हण-(सं.पुं.) पूजा, सम्मान।
 अर्हणा-(सं. स्त्री.) पूजा।
 अर्हणीय-(सं. वि.) पूजनीय, पूजा करने योग्य।
 अहंत-(सं.वि.) पूजनीय, प्रसिद्ध, जिनदेव, जैनियों के देवता।

अर्हा—(सं. स्त्री.) पूजा ।
 अर्हित—(सं.वि.) पूजित, पूजा किया हुआ ।
 अर्ह्य—(सं. वि.) पूज्य, मान्य, योग्य ।
 अलंकरण—(सं. पुं.) सजाना, सजावट, आमूषण ।
 अलंकर्ता—(सं. वि., पुं.) सजानेवाला ।
 अलंकार—(सं. पुं.) सजाना, आमूषण, गहना, वाक्य-रचना में आर्थिक चमत्कार लाने की क्रिया या शैली—उपमा, रूपक आदि ।
 अलंकार-शास्त्र—(सं. पुं.) अलंकारों का वर्णन-विवेचन करनेवाला शास्त्र ।
 अलंकृत—(सं. वि.) सजाया हुआ, अलंकार-युक्त ।
 अलंकृति—(सं. स्त्री.) देखें 'अलंकरण' ।
 अलंग—(हिं. पुं.) पार्श्व, ओर, बगल ।
 अलंघनीय—(सं. वि.) जो न लांघा जा सके ।
 अलंघ्य—(सं. वि.) देखें 'अलंघनीय' ।
 अलंबुषा—(सं. स्त्री.) छुई-मुई नामक पौधा ।
 अल—(हिं. पुं.) विच्छू का डंक ।
 अलक—(सं. पुं.) मस्तक के लटकते हुए बाल, लट, केश, पागल कुत्ता; -प्रभा—(स्त्री.) कुवेरपुरी ।
 अलका—(सं. स्त्री.) कुवेरपुरी, आठ-दस वर्ष की कन्या ।
 अलकाधिप, अलकाधिपति, अलकापति—(सं. पुं.) कुवेर ।
 अलक्त—(सं. पुं.) लाक्षा, लाख ।
 अलक्षण—(सं. पुं.) अशुभ चिह्न ; (वि.) अशुभ-सूचक, खराब ।
 अलक्षता—(हिं. स्त्री.) उद्देश्यहीनता ।
 अलक्षित—(सं. वि.) अज्ञात, न देखा हुआ, अप्रगट, अदृश्य ।
 अलक्ष्य—(सं. वि.) अज्ञेय, अदृश्य, जो देख न पड़े, अचिह्नित, लक्षणरहित ।
 अलख—(हिं. वि.) अलक्ष्य, अदृश्य, जो देख न पड़ता हो, अगोचर; (मुहा.) -जगाना—चिल्लाकर ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर के नाम पर भीख माँगना ।
 अलखधारी, अलखनामी—(हिं. पुं.) एक प्रकार के साधु जो अलख अलख पुकारते और भीख मांगते फिरते हैं ।
 अलग—(हिं. वि.) अलग्न, पृथक्, भिन्न; (क्रि.प्र.) -करना या होना—दूर करना या होना, हटना, हटाना ।
 अलगनी—(हिं.स्त्री.) कपड़ा टाँगने की डोरी ।
 अलगाना—(हिं.क्रि.सं.) पृथक् करना, अलग करना, हटा देना ।
 अलगाव, अलगावा—(हिं. पुं.) वियोग, पार्यक्य ।

अलग्न—(सं. वि.) न मिला हुआ, पृथक्; (पुं.) ज्योतिष में पापग्रहयुक्त लग्न ।
 अलघु—(सं. वि.) भारी, लंबा ।
 अलज्ज—(हिं. वि.) निर्लज्ज, लज्जाहीन ।
 अलता—(हिं. पुं.) अलक्तक, लाल रंग जिसको स्त्रियाँ पैर में लगाती हैं ।
 अलबला—(हिं. वि.) अनुपम, अनोखा, अनूठा, वैजोड़, बाँका, छैला, सुन्दर ।
 अलबलापन—(हिं. पुं.) सजवज, ठाट-वाट, छैलापन, सुन्दरता ।
 अलब्ध—(सं. वि.) अप्राप्त, हाथ में न आया हुआ ।
 अलभ्य—(सं. वि.) अप्राप्य, जो प्राप्त न हो सके, दुर्लभ, अमूल्य, कठिनता से मिलनेवाला ।
 अलम्—(सं. अव्य.) पर्याप्त रूप में, अतिशय, प्रचुर, पूरा ।
 अलर्क—(सं.पुं.) पागल कुत्ता, स्वेत मदार ।
 अललटप्पू—(हिं. वि.) मनमाना, अटकल-पच्चू, वेहिसाव, बाहियात ।
 अलल-बछेड़ा—(हिं. पुं.) घोड़े का छोटा बच्चा, अनभिज्ञ बालक ।
 अललाना—(हिं. क्रि. अ.) चिल्लाना ।
 अलवांती—(हिं. स्त्री.) प्रसूता, जिस स्त्री ने हाल में बच्चा जना हो ।
 अलवाई—(हिं. वि.) दो-एक महीने की ब्यायी हुई गाय या भैंस ।
 अलस—(सं. वि.) दीर्घसूत्री, बालसी, सुस्त ।
 अलसता—(सं.स्त्री.), अलसत्व—(सं.पुं.) आलस्य, सुस्ती ।
 अलसान—(हिं.स्त्री.) आलस्य, शिथिलता, सुस्ती ।
 अलसाना—(हिं. क्रि. अ.) सुस्त पड़ना, शिथिलता मालूम करना, झपकी लेना ।
 अलसी—(हिं. स्त्री.) अतसी, तीसी ।
 अलसेट—(हिं. पुं.) विलम्ब, देर, ढिलाई, विघ्न, घोखा-घड़ी, हेरफेर, अड़चन ।
 अलसेटिया—(हिं. वि.) रोकने या अड़चन डालनेवाला, बाधक, झगड़ालू, व्यर्थ में अड़ंगा डालनेवाला ।
 अलसौहाँ—(हिं. वि.) आलस्ययुक्त, सुस्त ।
 अलहदा—(अ. वि.) अलग, जुदा ।
 अलहदी—(हिं. वि.) देखें 'अहदी' ।
 अलहिया—(हिं. स्त्री.) एक रागिनी विशेष ।
 अलाई—(हिं. वि.) आलसी, सुस्त ।
 अलात—(सं. पुं.) अंगारा, कोयला ।
 अलान—(हिं. पुं.) हाथी बाँधने का खूँटा या सिक्कड़, वेड़ी, बन्वन ।
 अलानिया—(अ. अव्य.) खुले आम ।
 अलाप—(हिं. पुं.) देखें 'आलाप' ।

अलापना—(हिं.क्रि.अ.,सं.) बोलना, वात-चीत करना, ऊँचे स्वर में गाना ।
 अलापी—(हिं. वि.) बोलनेवाला, अला-पनेवाला ।
 अलावू—(सं. पुं.) कद्दू, लौकी, तुम्बी ।
 अलाभ—(सं. पुं.) लाभ का अभाव, हानि ।
 अलाम—(हिं. वि.) वातूनी, झूठ बोलने-वाला, मिथ्यावादी ।
 अलायक—(हिं. वि.) अयोग्य ।
 अलार—(सं. पुं.) कपाट, किवाड़; (हिं. पुं.) मटठी, आर्वा ।
 अलाल—(हिं. वि.) आलसी, निकम्मा ।
 अलाव—(हिं. पुं.) अलात, कौड़ा, जाड़े में तापने के लिये जलाई हुई आग ।
 अलावज—(हिं.पुं.) एक प्रकार का ढोलक ।
 अलावनी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का तार से बजनेवाला बाजा ।
 अलिंग—(सं. वि.) लिंग रहित, बिना चिह्न का, बिना पहचान का; (पुं.) परमात्मा ।
 अलिंगी—(सं. वि.) सच्चा ।
 अलिजर—(सं. पुं.) पानी रखने का मिट्टी का छोटा पात्र, झंझर, घड़ा ।
 अलिद—(सं. पुं.) दरवाजे के सामने का चबूतरा, एक प्राचीन जनपद ।
 अलि—(सं. पुं.) भ्रमर, भौरा, कौवा, कोयल, शराब, विच्छ; (हिं. स्त्री.) सखी, सहेली ।
 अलिक—(सं. पुं.) ललाट, माथा ।
 अलिजिह्वा, अलिजिह्विका—(सं. स्त्री.) गले के भीतर की घांटी, कौवा ।
 अलिदूर्वा—(सं.स्त्री.) एक प्रकार की दूर्वा ।
 अलिप्रिय—(सं. पुं.) आम का पेड़, लाल कमल ।
 अलिया—(हिं. स्त्री.) आलय, ताखा, अरवा ।
 अली—(हिं. स्त्री.) सखी, सहेली, पंक्ति; (पुं.) भौरा ।
 अलीक—(सं. पुं.) मिथ्या, झूठ; (वि.) अप्रिय, झूठा; (हिं. स्त्री.) कुरीति, अप्रतिष्ठा; -ता—(स्त्री.) झूठ ।
 अलीह—(हिं.वि.) मिथ्या, झूठ, अनुपयुक्त ।
 अलुदना—(हिं. क्रि.अ.) लड़खड़ाना, डग-मगाना ।
 अलुप्त—(सं. वि.) जो लुप्त न हो ।
 अलुब्ध—(सं. वि.) लोभरहित, जो लालची न हो ।
 अलूना—(हिं. वि.) बिना नमक मिला हुआ ।
 अलूला—(हिं. पुं.) तरंग, लहर, बुलबुला ।
 अले—(हिं.अव्य.) देखें 'अरे' ।
 अलेख—(हिं. वि.) अलक्ष्य, दुर्बोध,

जिसका हिसाब न हो सके, अनगिनती, बहुत अधिक।
 अलेखा—(हिं. वि.) निरर्थक।
 अलेखी—(हिं. वि.) न्यायविहीन, अन्यायी, अंधेर मचानेवाला।
 अलोक—(सं. पुं.) जगत् का अन्त, अदृश्य वस्तु; (हिं. पुं.) मिथ्या कलक; (वि.) निर्जन, न देखनेवाला, अदृश्य।
 अलोकना—(हिं. क्रि.स.) देखना, दृष्टि डालना, ताकना।
 अलोना—(हिं. वि.) अलवण, बिना नमक का, स्वादरहित।
 अलोप—(सं. वि.) जिसका लोप न हो।
 अलोभ—(सं. पुं.) लोभ का अभाव; (वि.) लोभरहित।
 अलोभी—(हिं. वि.) लोभशून्य, जिसको लालच न हो।
 अलोल—(सं. वि.) अचंचल, स्थिर।
 अलोलिक—(हिं. पुं.) अचंचलता, स्थिरता, ठहराव।
 अलोलुप—(सं. वि.) लोभशून्य, लालच न करनेवाला।
 अलोहित—(सं. वि.) अरक्त, जो लाल न हो।
 अलौकिक—(सं. वि.) लोक में अविदित, लोकोत्तर, अमानुषी, अद्भुत, विलक्षण।
 अलौकिकत्व—(सं. पुं.) विलक्षणता।
 अल्प—(सं. वि.) छोटा, कम, थोड़ा; -क्रीत—(वि.) सस्ता; -चेष्टित—(वि.) मन्द; -जीवी—(वि.) अल्पायु, कम आयुवाला; -ज्ञ—(वि.) थोड़े ज्ञानवाला; -ता—(स्त्री.) थोड़ी बुद्धि या समझ; -तनु—(वि.) वामन, बीना, दुर्बल; -ता—(स्त्री.) न्यूनता, सूक्ष्मता, कमी, छोटाई; त्व—(पुं.) अल्पता; -दृष्टि—(वि.) परिमित ज्ञानवाला; -धी—(वि.) अज्ञान, कम बुद्धि का; -प्राण—(पुं.) व्याकरण में व्यंजन वर्ण के प्रत्येक वर्ण का पहिला, तीसरा तथा पांचवां अक्षर और य, र, ल, व तथा स्वर; -बल—(वि.) निर्बल; बुद्धि—(वि.) मूर्ख; -भाषी—(वि.) कम बोलनेवाला; -मूर्ति—(वि.) छोटे शरीरवाला; -मूल्य—(वि.) सस्ता, कम मूल्य का; -व्यस्क—(वि.) छोटी अवस्था का; -वादी—(वि.) कम बोलनेवाला। -शः—(अव्य.) थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे, कुछ, कम।
 अल्पायु—(हिं. वि.) थोड़ी आयुवाला।
 अल्पाहार—(सं. पुं.) लघु भोजन, हल्का खाना।
 अल्पाहारी—(सं. वि.) कम भोजन करनेवाला।

अल्ल—(हिं. पुं.) वंश का नाम, उपगोत्र (तिवारी, पांडे, मिश्र आदि)।
 अल्लम-गल्लम—(हिं. पुं.) कूड़ा-ककट, अलर-बलर, व्यर्थ की बात, प्रलाप।
 अल्लाना—(हिं. क्रि. अ.) गला फाड़कर चिल्लाना, शोर करना।
 अल्लामा—(अ. वि.) दैवज्ञ, पंडित।
 अल्लाह—(अ. पुं.) मुसलमानों के धर्मानुसार परमेश्वर, सृष्टिकर्ता।
 अल्लह—(हिं. वि.) अकुशल, अनुभव हीन, उजड़, उद्धत, गंवार, अनाड़ी; (पुं.) छोटा बछड़ा; -पन—(पुं.) अनुभवहीनता, अनाड़ीपन, उजड़पन।
 अवन्ति, अवन्तिका, अवन्ती—(सं. स्त्री.) प्राचीन उज्जैन राज्य की राजधानी।
 अवंश—(सं. वि.) वंशहीन।
 अवकांपित—(सं. वि.) विचलित, घबड़ाया हुआ।
 अवकलन—(सं. पुं.) ज्ञान, समझ, दृष्टि।
 अवकलना—(हिं. क्रि. स.) ज्ञान होना, समझ में आना।
 अवकाश—(सं. पुं.) विश्राम लेने का समय, अवसर, समय, स्थान, अन्तर, हुरी, दृष्टिपात।
 अवकिरण—(सं. पुं.) विखेरना, विस्तार, फलाव, छितराव।
 अवकीर्ण—(सं. वि.) व्याप्त, चूर्ण किया हुआ, नाश किया हुआ, छितराया हुआ।
 अवकुंचन—(सं. पुं.) समेटना, बंदोरना।
 अवक्तव्य—(सं. वि.) न बोलने योग्य, अश्लील।
 अवक्र—(सं. वि.) सरल, सीधा, जो टेढ़ा न हो।
 अवक्रम—(सं. पुं.) निम्न गति, नीचे जाना।
 अवक्रोश—(सं. पुं.) निन्दा, गाली।
 अवगणन—(सं. पुं.) अपमान, निन्दा, तिरस्कार।
 अवगणित—(सं. वि.) अपमानित, निन्दित।
 अवगत—(सं. वि.) प्रतिपन्न, ज्ञात, विदित, जाना हुआ, नीचे गया हुआ, गिरा हुआ।
 अवगति—(सं. स्त्री.) बुद्धि, धारणा, नीचगति, कुगति।
 अवर्गाहित—(सं. वि.) निन्दित।
 अवगारना—(हिं. क्रि. स.) जताना, समझाना, बुझाना।
 अवगाह—(सं. पुं.) स्नान, अन्तःप्रवेश, अवगति; (वि.) ज्ञान से जाना हुआ, गहन, गहरा, अथाह, क्लिष्ट, कठिन।
 अवगाहन—(सं. पुं.) निमज्जन, पानी में घुसकर स्नान, प्रवेश, चाह, छानबीन, खोज।

अवगाहना—(हिं. क्रि. अ., स.) घुसकर स्नान करना, डूबना, घंसना, मथना, नहाना, छानबीन करना, हिलाना, डोलाना, विचारना, समझना, लीन होना।
 अवगाहित—(सं. वि.) नहाया हुआ।
 अवगुंठन—(सं. पुं.) ढांपना, छिपाना, घूंघट डालना, घूंघट।
 अवगुंठित—(सं. वि.) आच्छादित, छिपाया हुआ।
 अवगुंफित—(सं. वि.) गुया हुआ।
 अवगुण—(सं. पुं.) दोष, अपराध, बुराई, ऐव।
 अवग्रह—(सं. पुं.) प्रतिवन्ध, रुकावट, बाधा, अनावृष्टि, वर्षा का अभाव, प्रकृति, स्वभाव, शाप, कोसना।
 अवघट—(सं. पुं.) पीसने का यन्त्र, जांता; (वि.) कठिन, दुर्गम, विकट, गड़बड़।
 अवघटित—(सं. वि.) चालित, चलाया हुआ।
 अवघाती—(सं. वि.) चोट पहुँचानेवाला, मारनेवाला।
 अवचट—(हिं. पुं.) अनजान, अचक्का, अंडस, कठिनाई; (अव्य.) अकस्मात्।
 अवचन—(सं. वि.) मूक, गंगा।
 अवचनीय—(सं. वि.) अश्लील, फूहड़।
 अवच्छिन्न—(सं. पुं.) पृथक् किया हुआ, अलगाया हुआ, विशिष्ट अर्थ का।
 अवच्छेद—(सं. पुं.) छेदन, भेद, अलगाव, सीमा, व्याप्ति, निश्चय, अन्वेषण, छानबीन, परिच्छेद, विभाग।
 अवच्छेदक—(सं. पुं.) अलग करनेवाला, सीमा वांछनेवाला, निश्चय करनेवाला।
 अवजनित—(सं. वि.) जनित, उत्पन्न।
 अवज्ञा—(सं. स्त्री.) अनादर, अपमान, आज्ञा न मानना, पराजय, हार, वह अलंकार जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के गुण-दोष को नहीं लेती।
 अवज्ञान—(सं. पुं.) अपमान, तिरस्कार।
 अवज्ञात—(सं. वि.) अपमानित, तिरस्कृत।
 अवज्ञेय—(सं. वि.) अनादरणीय, तिरस्कार के योग्य।
 अवटना—(हिं. क्रि. स.) मथना, किसी द्रव पदार्थ को जलाकर गाढ़ करना।
 अवडेर—(हिं. पुं.) अंसट, बनेड़ा; (वि.) फेरवट का, अंसटो, बेंडगा।
 अवडेरना—(हिं. क्रि. स.) अंसट में डालना, कष्ट देना।
 अवतंस—(सं. पुं.) सिर का आनयन, कान का आनयन, कर्णपूर, तिरोट, मुकुट, टीका, हार, भाजा, पात्री, धानपुत्र, नतीजा, दुल्हा।
 अवतरण—(सं. पुं.) ऊपर से नीचे

आना, पार करना, जन्म लेना, प्रादु-
र्भाव, प्रतिकृति, सोपान, सीढ़ी, घाट ।
अवतरणिका, अवतरणी—(सं. स्त्री.)
ग्रन्थ की प्रस्तावना, भूमिका, उपोद्-
घात, रीति, परिपाटी ।
अवतरना—(हिं. क्रि. अ.) अवतार लेना,
जन्म लेना ।
अवतार—(सं. पुं.) नीचे आना, उतरना,
शरीर धारण करना, जन्म, देवताओं
का मनुष्यादि का शरीर धारण करना,
तीर्थ, सोपान, सीढ़ी ।
अवतारण—(सं. पुं.) उतारना, जन्म
लेना, ग्रन्थ की प्रस्तावना ।
अवतारना—(हिं. क्रि. स.) उत्पन्न करना,
रचना, उतारना, जन्म देना ।
अवतारित—(सं. वि.) आरोपित, रक्षित ।
अवतारी—(हिं. वि.) उतरनेवाला, अव-
तार ग्रहण करनेवाला, देवांशधारी,
अलौकिक ।
अवतीर्ण—(सं. वि.) ऊपर से नीचे को
आया हुआ, अवतारी ।
अवदत्त—(सं. वि.) फेरकर लिया हुआ ।
अवदरित—(सं. वि.) टूटा, फूटा, चिटका हुआ ।
अवदाध—(सं. पुं.) धूप, शीष्मकाल ।
अवदात—(सं. पुं.) शुभ्रता, श्वेतवर्णता;
(वि.) स्वच्छ, निर्मल; सुन्दर, पीला,
वसन्ती रंग का ।
अवदान—(सं. पुं.) प्रशस्त आचरण, अच्छा
काम, खण्डन, पराक्रम, शक्ति, अतिक्रम,
निर्मल करना ।
अवदान्य—(सं. वि.) कृपण, पराक्रमी,
उल्लंघन करनेवाला ।
अवदारक—(सं. वि.) विदारण करने-
वाला; (पुं.) कुदाली, फावड़ा ।
अवदारण—(सं. पुं.) विदारण, टुकड़े-
टुकड़ करना ।
अवदाह—(सं. पुं.) शरीर की जलन,
अग्नि से जल जाना ।
अवदीर्ण—(सं. वि.) विदीर्ण, पिघला हुआ ।
अवद्य—(सं. वि.) जो न कहा जा सके,
अधम, पापी, निन्द्य ।
अवध—(सं. पुं.) कौशल देश, अयोध्या;
(वि.) जो वध के योग्य न हो ।
अवधान—(सं. पुं.) मनोयोग, चित्त
लगाना, चित्तवृत्ति का निरोध करके एक
ओर लगाना, ध्यान, समाधि, सावधानी ।
अवधारण—(सं. पुं.) निरूपण, निश्चय,
विचारसहित निर्धारण ।
अवधारणीय—(सं. वि.) निरूपण करने
योग्य ।

अवधारना—(हिं. क्रि. स.) धारण करना,
ग्रहण करना ।
अवधारित—(सं. वि.) निर्धारित, निश्चित ।
अवधार्य—(सं. वि.) निर्णय करने योग्य,
विचारणीय ।
अवधि—(सं. स्त्री.) सीमा, काल, निर्धारित
काल, अन्त समय, पर्यन्त, तक ।
अवधिमान—(हिं. पुं.) समुद्र ।
अवधी—(सं. वि.) अवध संबंधी; (स्त्री.)
अवध की भाषा ।
अवधूत—(सं. वि.) कंपित, हिलाया हुआ;
(पुं.) एक प्रकार के सन्यासी ।
अवधूत—(सं. वि.) नियमित, निश्चित ।
अवधेय—(सं. वि.) श्रद्धा के योग्य,
जानने योग्य ।
अवध्वंस—(सं. पुं.) नाश, निन्दा, कलंक ।
अवध्वस्त—(सं. वि.) त्यागा हुआ, निन्दित ।
अवन—(हिं. पुं.) रक्षा, प्रसन्न करने का कार्य ।
अवनत—(सं. वि.) नीचा, झुका हुआ,
पतित, कम, नमस्कार किया हुआ ।
अवनति—(सं. स्त्री.) चिनथ, नम्रता,
न्यूनता, घाटा, अधोगति, हीन दशा ।
अवनम्र—(सं. वि.) अति नम्र ।
अवनि, अवनी—(सं. स्त्री.) भूमि, पृथ्वी ।
अवनिनाथ, अवनीपाल, अवनीश—(सं.
पुं.) राजा ।
अवपतन—(सं. पुं.) उतार, गिराव,
फैलाव, हाथी पकड़ने का गड्ढा ।
अवप्लुत—(सं. वि.) आर्द्र, भीगा हुआ ।
अवबोध—(सं. पुं.) ज्ञान, शिक्षा, बोध ।
अवबोधक—(सं. पुं.) सूर्य, रात का पहरेवा ।
अवबोधन—(सं. पुं.) चैतावनी ।
अवभासित—(सं. वि.) प्रकाशित, लक्षित ।
अवभृथ—(सं. पुं.) प्रधान यज्ञ समाप्त
होने पर दूसरे यज्ञ का आरम्भ, यज्ञ के
अन्त का स्नान ।
अवम—(सं. वि.) अधम, निकृष्ट; (पुं.)
दिनक्षय, पितृगण विशेष, मलमास ।
अवमत—(सं. वि.) तिरस्कृत, अपमानित ।
अवमर्दन—(सं. पुं.) दलन, मर्दन ।
अवमर्दित—(सं. वि.) मला हुआ, कुचला
हुआ ।
अवमर्श—(सं. पुं.) स्पर्श, संयोग ।
अवमर्षण—(सं. पुं.) असहनशीलता, अघैर्य ।
अवमान—(सं. पुं.) अनादर, तिरस्कार ।
अवमानना—(हिं. क्रि. स.) तिरस्कार करना ।
अवमानित—(सं. वि.) अपमानित ।
अवमोचन—(सं. पुं.) उन्मोचन, स्वतन्त्रता-
प्रदान ।
अवयव—(सं. पुं.) अंश, भाग, टुकड़ा, अङ्ग,

शरीर का कोई भाग, वाक्य का अंश ।
अवयवी—(सं. वि.) अवयव रखनेवाला,
अंगी; (पुं.) शरीर, देह ।
अवर—(सं. वि.) अधम, नीच, पीछे
रहनेवाला, अतिश्रेष्ठ, दूसरा ।
अवरज—(सं. पुं.) छोटा भाई, शूद्र ।
अवरत्त—(सं. वि.) विरत, विश्रान्त,
पृथक्, स्थिर ।
अवरति—(सं. स्त्री.) विश्राम, ठहराव,
छुटकारा ।
अवराधक—(हिं. वि.) आराधना करने-
वाला, दास, सेवक ।
अवराधन—(सं. पुं.) आराधना, उपासना,
पूजा, सेवा ।
अवराधना—(हिं. क्रि. स.) उपासना करना,
सेवा करना ।
अवराधी—(सं. वि., पुं.) आराधक, उपासक,
पूजक ।
अवरावर—(सं. वि.) बहुत छोटा ।
अवरुग्ण—(सं. वि.) रुग्ण, रोगी ।
अवरुद्ध—(सं. वि.) प्रतिरुद्ध, गुप्त,
छिपा हुआ ।
अवरुद्धा—(सं. स्त्री.) रखनी, उदरी ।
अवरुद्ध—(सं. वि.) उतारा हुआ, उखाड़ा
हुआ ।
अवरूप—(सं. वि.) कुरूप, भद्दा ।
अवरेखना—(हिं. क्रि. स.) चित्रित करना
देखना—मालना, अनुमान करना,
सोचना, मानना, समझना, बूझना,
स्वीकार करना ।
अवरेव—(हिं. पुं.) वक्र चलन, तिरछी
चाल, फन्दा, कपड़े की तिरछी काट,
कठिनाई, विवाद, झगड़ा ।
अवरेवदार—(हिं. वि.) तिरछी काट का,
पेचीला ।
अवरेवी—(हिं. वि.) देखें 'अवरेवदार' ।
अवरोध—(सं. पुं.) रोक, रुकावट, विरोध,
निषेध, झगड़ा, घेरा, राजा का अन्तःपुर ।
अवरोधक—(सं. वि., पुं.) रोकनेवाला, रक्षक ।
अवरोधन—(सं. पुं.) विरोध, रोक-टोक,
उतार, राजा का अन्तःपुर ।
अवरोधना—(हिं. क्रि. स.) रोकना, बाँधना,
विरोध करना ।
अवरोधित—(सं. वि.) घेरा हुआ, रोका हुआ ।
अवरोधी—(सं. वि.) रोकनेवाला, ढाँकने-
वाला; (पुं.) अन्तःपुर का रक्षक ।
अवरोपण—(सं. पुं.) उतार, गिराव ।
अवरोपणीय—(सं. वि.) उखाड़ने योग्य ।
अवरोपित—(सं. वि.) उतारा हुआ,
उखाड़ा हुआ ।

अवरोह—(सं. पुं.) अवतरण, उतार, गिराव, शाखा का अग्र-भाग, वृक्ष के ऊपर चढ़नेवाली बेल ।
 अवरोहण—(सं. पुं.) अवतरण, चढ़ाव, उतार ।
 अवरोहना—(हिं. क्रि. अ., स.) उतरना, उतारना, चढ़ना, खींचना, रोकना, धाड़ना, लगाना ।
 अवरोही—(सं. पुं.) वरगद का वृक्ष, संगीत में उतरता हुआ स्वर ।
 अवर्ग—(सं. वि.) वर्गशून्य, विना समूह का ।
 अवर्ण—(सं. वि.) वर्णरहित, विना रंग का, कुस्प, गुण-भिन्न, वर्ण-धर्म से रहित, अंगराम-भिन्न, प्रशंसा-भिन्न, नीच ।
 अवर्ण—(सं. वि.) वर्णन न करने योग्य; (पुं.) प्रधान विषय, उपमान ।
 अवर्त—(सं. पुं.) पानी का भँवर, चक्कर ।
 अवर्तमान—(सं. वि.) अनुपस्थित, अप्रस्तुत ।
 अवर्धमान—(सं. वि.) वृद्धिशून्य, क्षीण होनेवाला ।
 अवर्षण—(सं. पुं.) अनावृष्टि, वर्षा का न होना ।
 अवलंब, अवलंबन—(सं. पुं.) आश्रय, सहारा ।
 अवलंबना—(हिं. क्रि. स.) सहारा लेना, आश्रय लेना, ठहराना, टिकना ।
 अवलंबित—(सं. वि.) आश्रित, सहारा लिया हुआ, निर्भर ।
 अवलंबी—(सं. वि.) सहारा लेनेवाला, अवलंबन करनेवाला ।
 अवलम्बन—(सं. वि.) लगा हुआ, संलग्न ।
 अवलिप्त—(सं. वि.) गवित, घमंडी, लेप किया हुआ ।
 अवलिप्तता—(सं. स्त्री.) गर्व, घमंड ।
 अवली—(हिं. स्त्री.) पंक्ति, समूह, झुण्ड, वह अन्न जो पहले-पहले खेत में से काटा जाता है ।
 अवलीक—(हिं. वि.) पापशून्य, अपराधरहित, निष्कलक, शुद्ध ।
 अवलीक—(सं. वि.) चाटा हुआ, व्याप्त ।
 अवलीला—(सं. स्त्री.) अनादर, अपमान ।
 अवलुंठित—(सं. वि.) लेटा हुआ ।
 अवलेप—(सं. पुं.) उवटन, भूषण, लेप, गर्व, घमण्ड ।
 अवलेपन—(सं. पुं.) विलेपन, लीपना, पीतना, उवटन, सम्बन्ध, गर्व, अभिमान ।
 अवलेह—(सं. पुं.) चटनी ।
 अवलेह्य—(सं. वि.) चाटने योग्य ।
 अवलोक—(सं. पुं.) दर्शन, देखना ।
 अवलोकक—(सं. वि.) देखनेवाला ।

अवलोकन—(सं. पुं.) दर्शन, देखना, अनुसन्धान करना, देख-माल करना ।
 अवलोकना—(हिं. क्रि. स.) अनुसन्धान करना, जाँच-पड़ताल करना ।
 अवलोकनि—(हिं. स्त्री.) नेत्र, दृष्टि, चितवन ।
 अवलोकनीय—(सं. वि.) देखने योग्य ।
 अवलोकित—(सं. वि.) देखा हुआ, दृष्ट ।
 अवलोक्य—(सं. वि.) दर्शक, अनुसन्धान करनेवाला ।
 अवश—(सं. वि.) पराधीन, विवश, लाचार ।
 अवशता—(सं. स्त्री.) पराधीनता ।
 अवशिष्ट—(सं. वि.) अतिरिक्त, परिशिष्ट, बचा हुआ, अल्प ।
 अवशेष—(सं. वि.) बचा हुआ, शेष; (पुं.) बची हुई वस्तु, अन्त ।
 अवश्य—(सं. अव्य.) देखें 'अवश्य' ।
 अवश्यभावी—(सं. वि.) अवश्य होनेवाला ।
 अवश्य—(सं. वि.) अनधीन, स्वतन्त्र रहनेवाला; (अव्य.) निश्चय, निःसन्देह ।
 अवश्यमेव—(सं. अव्य.) निस्संदेह ।
 अवश्या—(सं. स्त्री.) अवशीभूत स्त्री ।
 अवष्टम्भ—(सं. पुं.) प्रारम्भ, अवलम्बन, सहारा, रोक, ठहराव, अनप्रता ।
 अवसंजन—(सं. पुं.) आलिंगन ।
 अवस—(हिं. अव्य.) अवश्य ।
 अवसक्त—(सं. वि.) संलग्न, लगा हुआ ।
 अवसक्तिका—(सं. स्त्री.) योग करने का एक आसन, लँगोटी ।
 अवसथ—(सं. पुं.) गाँव, पाठशाला, मकान ।
 अवसन—(हिं. वि.) वस्त्रहीन ।
 अवसन्न—(सं. वि.) अनुपयुक्त, समाप्त, आलसी, नट होनेवाला, दुःखी ।
 अवसन्नता—(सं. स्त्री.) अवसन्नत्व—(सं. पुं.) अनुत्साह, समाप्ति ।
 अवसर—(सं. पुं.) प्रस्ताव, समय, काल, मौका, अवकाश, उतार, वर्षा का होना, वह अलंकार जिसमें सामयिक घटना का वर्णन रहता है ।
 अवसर्ग—(सं. पुं.) अप्रतिबन्ध, स्वतंत्रता ।
 अवसर्प—(सं. पुं.) चर, दास, मृत्यु ।
 अवसर्पण—(सं. पुं.) अधोगमन, नीचे को उतार ।
 अवसर्पिणी—(सं. स्त्री.) जैनियों का युग विशेष ।
 अवसर्पी—(सं. वि.) अधोगामी, नीचे जानेवाला ।
 अवसाद—(सं. पुं.) विपाद, क्षय, नारा, दीनता, समाप्ति, अवसन्नता, धकावट ।
 अवसादक—(सं. वि.) काम बिगाड़ने-

वाला, थकानेवाला, समाप्त होनेवाला ।
 अवसादन—(सं. पुं.) नाग ।
 अवसादित—(सं. वि.) थकाया हुआ ।
 अवसान—(सं. पुं.) विराम, समाप्ति, सीमा, परिणाम, शेष, मृत्यु, सन्ध्या, दहन-स्थान, मरघट ।
 अवसायक—(सं. वि.) पूरा करनेवाला, निश्चय करनेवाला ।
 अवसायी—(सं. वि.) निवासी ।
 अवसि—(हिं. अव्य.) अवश्य, निश्चय ।
 अवसिक्त—(सं. वि.) सींचा हुआ ।
 अवसी—(हिं. पुं.) कच्चा काटा हुआ अन्न, गद्दर ।
 अवस्युप्त—(सं. वि.) सोया हुआ ।
 अवस्युट—(सं. वि.) दिया हुआ, छोड़ा हुआ ।
 अवसक—(सं. पुं.) चारों ओर छिड़काव या सिंचाई ।
 अवसेचन—(सं. पुं.) सब दिशाओं में सिंचाई, पसीजना, पसीना निकालना, रोगी के शरीर में से रक्त निकालने की क्रिया ।
 अवस्कंद—(सं. पुं.) सेना के लड़ने का स्थान, शिविर, आक्रमण, धावा ।
 अवस्कंदन—(सं. पुं.) सम्पूर्ण शरीर को डुबाकर स्नान, आक्रमण ।
 अवस्कंदित—(सं. वि.) आक्रमण किया हुआ, नहाया हुआ ।
 अवस्कर—(सं. पुं.) पुरीप, विष्ठा, गोबर, मल !
 अवस्तार—(सं. पुं.) परदा, ढकना ।
 अवस्तु—(सं. पुं.) चुच्छ वस्तु ।
 अवस्त्र—(सं. वि.) वस्त्रहीन, नंगा ।
 अवस्था—(सं. स्त्री.) दशा, स्थिति, आयु, आकार ।
 अवस्थान—(सं. पुं.) स्थान, स्थिति, स्थितिकाल, ठहराव, ठिकाना ।
 अवस्थित—(सं. वि.) स्थित, ठहरा हुआ, वर्तमान, दृढ़, जमा हुआ ।
 अवस्थिति—(सं. स्त्री.) अवस्थान, ठहराव ।
 अवस्थंदन—(सं. पुं.) चूना, आलिंगन ।
 अवह—(सं. वि.) जो वहन न किया जा सके ।
 अवहरण—(सं. पुं.) लूट, चोरी ।
 अवहार्य—(सं. वि.) हमारे स्वान में ले जाने योग्य ।
 अवहास—(सं. पुं.) उपहास, टट्टा ।
 अवहित—(सं. वि.) प्रतिद्ध, नावधान ।
 अवहेलना—(सं. स्त्री.) अनादर, अपमान, तिरस्कार; (हिं. क्रि. स.) धातु न मानना, तिरस्कार करना ।
 अवहेला—(सं. स्त्री.) अवहेलना ।
 अवहेलित—(सं. वि.) अनादर किया हुआ, तिरस्कृत ।
 अर्वा—(हिं. पुं.) देवें 'अर्वा' ।

अवांतर-(सं. वि.) प्रांत के मध्य का, प्रसंग के बीच का; -देश(पुं.)प्रांत के बीच का प्रदेश।
 अवांमुख-(सं. वि.) अघोमुख, मुख लटकाने हुए, लज्जित।
 अवांसी-(हि.स्त्री.)कृषिफल में सबसे पहले काटे हुए अन्न का बोझ, अवली।
 अवाई-(हि.स्त्री.)आगमन,
 अवाक्-(सं. वि.) निस्तब्ध, मौन, चुप, चकित, धवड़ाया हुआ।
 अवाक्य-(सं.वि.)सम्भाषण न करता हुआ।
 अवागी-(हि. वि.) मौन, चुप।
 अवाग्र-(सं.वि.)अवगत, झुका हुआ, नम्र।
 अवाची-(सं. स्त्री.) दक्षिण दिशा।
 अवाचीन-(सं.वि.)दक्षिणीय,दक्षिणात्य।
 अवाच्य-(सं. पुं.) जो वचन कहने योग्य न हो, गाली-गलोज, निन्दा; (वि.) निन्दित, नीच।
 अवाच्यता-(सं.स्त्री.)अश्लीलता,फूहड़पन।
 अवादी-(सं. वि.) विवाद न करने वाला, न झगड़नेवाला।
 अवाध-(सं. वि.) विना बाधा या रूकावट का।
 अवाध्य-(सं.वि.)रोकने से न माननेवाला।
 अवापित-(सं. वि.) न बोया हुआ।
 अवाप्त-(सं. वि.) अप्राप्त, जो प्राप्त न हुआ हो।
 अवान-(सं. वि.) दक्षिण, दाहिना।
 अवार-(सं. पुं.) नदी के इस पार का किनारा।
 अवारण-(सं. वि.) विना निषेध का।
 अवारणीय-(सं. वि.) निषेध न किया जानेवाला।
 अवारना-(हि. क्रि. स.) रोकना, मना करना; (पुं.) किनारा, छेद, मोड़।
 अवारित-(सं. वि.) निवारण न किया हुआ, अनिवारित।
 अवारी-(हि.स्त्री.)बागडोर,तट,किनारा।
 अवार्थ-(सं. वि.) अनिवार्य, अवारणीय।
 अवात-(हि. पुं.) देरें 'आवात'।
 अवास्तव-(सं. वि.) अयथार्थ, मिथ्या, झूठ, निराधार।
 अवाह्य-(सं. वि.) न ले जाने योग्य।
 अवि-(सं. पुं.) सूर्य, मंडू, पर्वत, वायु, कम्बल, मदार का वृक्ष।
 अविच- (हि. वि.) विना खिला हुआ।
 अविचट-(सं. वि.) जो भयंकर न हो, अविस्तृत, न फैला हुआ।
 अविफल-(सं. वि.) चिन्तामूल्य, निश्चल, मान्य, अभाग, व्याकुल न रहनेवाला।

अविकल्प-(सं.वि.)असन्दिग्ध,सन्देहरहित।
 अविकार-(सं.वि.)विकाररहित, निर्दोष।
 अविकारी-(सं. वि.) निर्विकार, जो विकारजनक न हो।
 अविकृत-(सं. वि.) प्रकृत-गुणयुक्त, जो विगड़ा न हो।
 अविक्रोत-(सं.वि.) जो वेचा न गया हो।
 अविक्रय-(सं. वि.) न बेचने योग्य।
 अविगत-(सं. वि.) अज्ञात, अनिर्वचनीय, न वर्णन करने योग्य, नित्य, जिसका नाश न हो।
 अविगृहीत-(सं.वि.)प्रशंसित,अनिन्दनीय।
 अविग्रह-(सं. वि.) निरवयव, निराकार।
 अविघ्न-(सं. वि.) विना विघ्न का, विघ्न-शून्य।
 अविचर-(हि. वि.) स्थिर, अटल।
 अविचल-(सं.वि.)अचल, स्थिर, अटल।
 अविचार-(सं. पुं.)अज्ञान,अन्याय, अत्याचार, अविवेक।
 अविचारित-(सं.वि.)विना विचारा हुआ।
 अविचारी-(सं.वि.)अविवेकी, अत्याचारी, अन्यायी।
 अविचेतन-(सं. वि.) संज्ञारहित।
 अविच्छिन्न-(सं. वि.) सतत, निरन्तर।
 अविजित-(सं. वि.) अजेय।
 अविच्छेद-(सं. पुं.) विच्छेद का अभाव; (वि.) निरन्तर।
 अविज्ञ-(सं. वि.) अनिपुण।
 अविज्ञात-(सं. वि.) अज्ञात, अनजाना, विना समझा-बूझा।
 अविज्ञेय-(सं.वि.)दुर्ज्ञेय, न जानने योग्य।
 अविगत-(सं.वि.)प्रतिकूल, विरुद्ध, उलटा।
 अविगत्य-(सं.वि.)असत्य, मिथ्या, झूठ।
 अविगत्य-(सं. वि.) सत्य, सच्चा।
 अविर्तकित-(सं. वि.) तर्कशून्य, विना तर्क किया हुआ।
 अविच- (सं. वि.) धनरहित, निर्धन।
 अविद-(सं. वि.) मूर्ख, अज्ञानी।
 अविदग्ध-(सं.वि.)न जलाया हुआ, कच्चा।
 अविदित-(सं. वि.) अज्ञात, अप्रकट, गुप्त, न जाना हुआ।
 अविद्ध-(सं.वि.)न वेधा हुआ, न छेदा हुआ।
 अविद्य-(सं. वि.) मूर्ख, लठ।
 अविद्यमान-(सं. वि.) अनुपस्थित, जो उपस्थित न हो, असत्, मिथ्या।
 अविद्या-(सं. स्त्री.) अज्ञान, ज्ञान का अभाव, मिथ्या ज्ञान, मोह।
 अविद्यता-(सं. स्त्री.) अज्ञान, मूर्खता।
 अविद्वान्-(हि. पुं.) मूर्ख, अपण्डित।
 अविद्वेष-(सं.पुं.)विरोध का अभाव,अनुराग।

अविधवा-(सं.स्त्री.)सधवा, सोहागिन।
 अविधान-(हि. वि.) विधानशून्य, विना तरीके का।
 अविधि-(सं. स्त्री.) नियम का विरोध; (वि.) नियम के प्रतिकूल।
 अविनय-(हि. स्त्री.) विनय का अभाव, घृष्टता, उद्दण्डता।
 अविनश्चर-(हि. वि.)अविनाशी,नाश न होनेवाला, चिरस्थायी; (पुं.)परमेश्वर।
 अविनाश-(हि.पुं.)अक्षयता, विनाश का अभाव, रक्षा।
 अविनाशी-(सं. वि.) नाश न होनेवाला, अविनश्चर, अक्षय।
 अविनाशी-(हि. वि.) देख 'अविनाशी'।
 अविनीत-(सं. वि.) विनयशून्य, अशिक्षित, दुष्ट, उद्धत, घृष्ट, ढीठ।
 अविनीता-(सं. वि.) पुंश्चली, कुलटा, व्यभिचारिणी।
 अविपन्न-(सं. वि.) विशुद्ध, स्वच्छ।
 अविपर्यय-(सं. पुं., वि.) विपर्यय का अभाव, विना क्रम का।
 अविपुल-(सं. वि.) क्षुद्र, छोटा।
 अविभक्त-(सं. वि.) विभागरहित, मिला हुआ, अभिन्न, अलग न किया हुआ।
 अविपुक्त-(सं. वि.) जो मुक्त न हो, जिसने मुक्ति न प्राप्त की हो, बद्ध; (पुं.) काशी क्षेत्र, कनपटी।
 अवियोग-(सं. पुं.) संयोग, मिलाप।
 अविरत-(सं. वि.) अनवरत, निरन्तर, नित्य, विरामहीन, कार्य में लीन; (अव्य.) लगातार, सर्वदा।
 अविरति-(सं. स्त्री.) निरंतरता, लीनता, विपयासक्ति।
 अविरल-(सं. वि.) सघन, निविड, मिला हुआ।
 अविराम-(सं. पुं.) विराम का अभाव; (वि., अव्य.) निरन्तर।
 अविरुद्ध-(सं. वि.)व्यवहाररहित,अनुकूल।
 अविरोध-(सं. पुं.) विरोध का अभाव, समानता, अनुकूलता, मैत्री, मेल; (वि.) अनुकूल।
 अविरोधी-(सं.वि.,पुं.)विरोध न करनेवाला, मित्र।
 अविलंबित-(सं. वि.) देर न किया हुआ; (अव्य.) शीघ्र।
 अविलास-(सं. पुं.) विलास का अभाव, हावभाव न दिखलाना।
 अविवक्षित-(सं. वि.)असंबद्ध विषय का।
 अविवर-(सं. वि.) घना, विना छिद्र का।
 अविवाद-(सं.वि.)निर्विवाद,विवाद-रहित।

अविवाहित—(सं. वि.) जिसका व्याह न हुआ हो, कुंवारा।
 अविवाही—(सं. वि.) विवाह न करने-वाला, ब्रह्मचारी।
 अविवेक—(सं. पुं.) विवेक-ज्ञान का अभाव, अविचार, अज्ञान, मूर्खता, अन्याय।
 अविवेकता—(सं. स्त्री.), अविवेकत्व—(सं. पुं.) विवेक का अभाव, अज्ञानता, मूर्खता।
 अविवेकी—(सं. वि.) अज्ञानी, मूर्ख, अविचारी, अन्यायी।
 अविवेकक—(सं. वि.) जिसको अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो।
 अविवेचना—(सं. स्त्री.) अविवेकता, मूर्खता।
 अविशंका—(सं. स्त्री.) विश्वास, भरोसा।
 अविशुद्ध—(सं. वि.) अपवित्र, अस्वच्छ।
 अविशेष—(सं. पुं.) भेद का अभाव, अभेद, ऐक्य; (वि.) तुल्य, समान, बराबर।
 अविश्रांत—(सं. वि.) विरामरहित, न थका हुआ।
 अविश्वसनीय—(सं. वि.) विश्वास न करने योग्य, संदिग्ध।
 अविश्वस्त—(सं. वि.) अविश्वसनीय, सन्दिग्ध, संदेहयुक्त।
 अविश्वास—(सं. पुं.) विश्वास का अभाव, सन्देह, नास्तिकता।
 अविश्वासी—(सं. वि.) विश्वास न करने-वाला, जिस पर कोई विश्वास न करे।
 अविषम—(सं. वि.) सुगम, सीधा।
 अविषय—(सं. वि.) अगोचर, अदृश्य, इन्द्रियातीत।
 अविषाद—(सं. पुं.) प्रसन्नता, आनन्द।
 अविस्तर—(सं. वि.) संकुचित, न फैला हुआ।
 अविस्तार—(सं. पुं.) विस्तार का अभाव।
 अविस्तीर्ण—(सं. वि.) न फैला हुआ, संकुचित।
 अविस्तृत—(सं. वि.) संलग्न, मिला हुआ।
 अविहित—(सं. वि.) निषिद्ध, न किया हुआ।
 अविह्वल—(सं. वि.) जो व्याकुल न हो, स्वस्थ, अव्यथ।
 अवोक्षित—(सं. वि.) अदृष्ट, न देखा हुआ।
 अवोज—(सं. वि.) वोजशून्य, विना वोज का, शून्य, नामर्द।
 अवोर—(सं. वि.) जो वीर या पराक्रमी न हो, कायर।
 अवोरा—(सं. स्त्री.) पुत्र तथा पति से रहित स्त्री, स्वतन्त्र महिला।
 अवृत्ति—(सं. वि.) जीविकारान्य, विना रोजगार का।
 अवृत्त—(सं. वि.) जो वृद्ध न हो, छोटा।
 अव्येक—(सं. पुं.) दर्शक, निरीक्षक।

अवेक्षण—(सं. पुं.) अवलोकन, दर्शन।
 अवेक्षणीय—(सं. वि.) दर्शनीय, देखने योग्य।
 अवेक्षित—(सं. वि.) पर्यालोचित, निरीक्षण किया हुआ।
 अवैद्य—(सं. वि.) अलभ्य, न जानने योग्य।
 अवैला—(सं. स्त्री.) अनुचित काल, कुसमय।
 अवैष्ट—(सं. वि.) वैष्टनरहित, विना हटने का।
 अवैतनिक—(सं. वि.) विना वेतन का, विना कुछ लिये काम करनेवाला।
 अवैदिक—(सं. वि.) वेद से सम्बन्ध न रखनेवाला, वेद-विरुद्ध।
 अवैध—(सं. वि.) विधि-विहीन, निषिद्ध।
 अवैधव्य—(सं. पुं.) सधवापन, सोहाग।
 अवैर—(सं. पुं.) वैर का अभाव, शत्रुता न होना।
 अवैराग्य—(सं. पुं.) वैराग्य का अभाव, विषयासक्ति।
 अव्यक्त—(सं. पुं.) अज्ञात बात, कामदेव, आत्मा, प्रकृति, सूक्ष्म शरीर, ब्रह्म; (वि.) अज्ञात, अगोचर, अप्रत्यक्ष, अस्पष्ट; -गणित—(पुं.) बीजगणित; -गति—(वि.) गुप्त रूप से जानेवाला; -मूर्ति—(वि.) जिसका रूप देख न पड़े; -राशि—(स्त्री.) बीजगणित में अज्ञात परिमाण; -लिंग—(पुं.) जो पहिचाना न जा सके, संन्यासी।
 अव्यग्र—(सं. वि.) न घबड़ाया हुआ, शान्त, सन्तुष्ट।
 अव्यथ—(सं. वि.) व्यथा या पीड़ा-रहित।
 अव्यथा—(सं. स्त्री.) व्यथा का अभाव, आरोग्य।
 अव्यभिचार—(सं. पुं.) व्यभिचार का अभाव, निष्ठा।
 अव्यय—(सं. पुं.) व्याकरण में वह शब्द जिसका रूप अविकारी ही रहता है, यिव, विष्णु, परब्रह्म; (वि.) विकारशून्य, सर्वदा समान रहनेवाला, नाश न होनेवाला, नित्य, विना आदि-अन्त का, व्ययहीन, विना खर्च का, अक्षय।
 अव्ययीभाव—(सं. पुं.) व्याकरण में समान का एक भेद।
 अव्यर्थ—(सं. वि.) सार्थक, सफल, जो व्यर्थ न हो, अवश्य प्रभाव डालनेवाला।
 अव्यलीक—(सं. वि.) प्रिय, सत्य, सच्चा।
 अव्यवधान—(सं. पुं.) निकटता, समीपता।
 अव्यवसाय—(सं. पुं.) उद्यम का अभाव, व्यवसाय का न होना।
 अव्यवसायी—(सं. वि.) उद्यमरहित, निरुद्यमी।

अव्यवस्था—(सं. स्त्री.) नियम का अभाव, शास्त्रादि के विरुद्ध व्यवस्था, मर्यादा न होना; (वि.) स्थिरता-रहित, चञ्चल।
 अव्यवस्थित—(सं. वि.) विना मर्यादा का, बठिकाने का, अस्थिर, चञ्चल।
 अव्यवहार्य—(सं. वि.) व्यवहार में न आनेवाला, पतित।
 अव्यवहित—(सं. वि.) व्यवधानरहित सटा हुआ।
 अव्यसन—(सं. पुं.) बुरी टेव का न होना।
 अव्यस्त—(सं. वि.) पूरा, समूचा।
 अव्याकुल—(सं. वि.) जो घबड़ाया न हो, स्वस्थ।
 अव्याकृत—(सं. वि.) अप्रकाशित, गुप्त, विकाररहित, वेदान्त मत के अनुसार संसार का बीजरूप कारण।
 अव्याख्येय—(सं. वि.) व्याख्या न करने योग्य।
 अव्याज—(सं. पुं.) छल या कपट का अभाव।
 अव्यापक—(सं. वि.) व्यापक न होनेवाला, घिरा हुआ, परिच्छिन्न।
 अव्यापार—(सं. पुं.) निरर्थक व्यापार, जो अपना कार्य न हो।
 अव्यापी—(सं. वि.) देखें 'अव्यापक'।
 अव्याप्त—(सं. वि.) जो व्याप्त न हो, परिच्छिन्न।
 अव्याप्ति—(सं. स्त्री.) व्याप्ति का अभाव।
 अव्याप्य—(सं. वि.) व्याप्त न होने-वाला, अदभुत।
 अव्याहृत—(सं. वि.) वेरोक, सच्चा, हताग न होनेवाला।
 अव्यत्यन्न—(सं. वि.) अनुभवशून्य, अनभिज्ञ, व्याकरण न जाननेवाला।
 अग्रण—(सं. वि.) अग्ररहित।
 अग्रल—(अ. वि.) पहला, प्रथम, सर्व-श्रेष्ठ।
 अग्रक—(सं. वि.) शंकाशून्य।
 अग्रका—(सं. स्त्री.) शंका का अभाव।
 अग्रकित—(सं. वि.) जो शंका न माने।
 अग्रकुन—(सं. पुं.) बुरा सगुन, दुर्निमित्त।
 अग्रवत—(सं. वि.) अयोग्य, असमर्थ, निर्दल।
 अग्रस्तता—(सं. स्त्री.) असमर्थता, निर्बलता।
 अग्रवित—(सं. स्त्री.) अयोग्यता, निर्बलता, नपुंसकता।
 अशक्य—(सं. वि.) असाध्य, अनन्मय, जो बल में न किया जा सके; (पुं.) एक अलंकार जिसमें वाच्यवचन किन्नी कार्य के न होने का भाव दिखलया जाता है।
 अशठ—(सं. वि.) जो दृष्ट न हो, नश, सज्जन।

अशत्रु—(सं.पुं.) मित्र, चन्द्रमा; (वि.) शत्रुरहित।
 अशान—(सं.पुं.) भोजन, आहार, अन्न, व्याप्ति।
 अशानाया—(सं.स्त्री.) भोजन की इच्छा।
 अशानि—(सं.पुं.) इन्द्र, विद्युत्, अग्नि, हीरा।
 अशानीय—(सं. वि.) भोजन करने या कराने योग्य।
 अशब्द—(सं.वि.) शब्दहीन, विना शब्द का।
 अशरण—(सं.वि.) विना शरण का, अनाथ।
 अशरीर—(सं. वि.) देहशून्य, विना शरीर का; (पुं.) परमात्मा, कामदेव।
 अशरीरत्व—(सं.पुं.) मोक्ष, निर्वाण।
 अशरीरी—(सं.वि.) देहशून्य, विना शरीर का।
 अशर्म—(सं. वि.) सुखरहित, दुःखी।
 अशस्त्र—(सं.वि.) शस्त्ररहित, विना शस्त्र का।
 अशांत—(सं. वि.) जो शान्त न हो, असन्तुष्ट, अधीर।
 अशांतता, अशांति—(सं. स्त्री.) शान्ति का अभाव, चंचलता, असन्तोष, अस्थिरता।
 अशाखा—(सं. वि.) विना शाखा का।
 अशाश्वत—(सं. वि.) अनित्य, अस्थिर।
 अशासन—(सं. पुं.) शासन का अभाव।
 अशिक्षित—(सं. वि.) शिक्षाशून्य, विना पढ़ा-लिखा, अनाड़ी, गँवार, मूर्ख।
 अक्षित—(सं. वि.) भक्षित, खाया हुआ।
 अक्षिथिल—(सं.वि.) जो क्षिथिल न हो, बृद्ध।
 अक्षिव—(सं. वि.) अमङ्गल, अशुभ।
 अक्षिणु—(सं. वि.) शिशुरहित, विना सन्तान का।
 अक्षिष्ट—(सं. वि.) अविनीत, उजड़ड।
 अक्षिष्टता—(सं.स्त्री.) दुःशीलता, ढिठाई।
 अशोत—(सं. पुं.) उष्णता, गर्मी।
 अशोतल—(सं. वि.) जो ठंडा न हो, गरम।
 अशील—(सं.पुं.) दृष्ट शील, दुरा स्वभाव।
 अशुचि—(सं. वि.) अपवित्र, मैला-कुचैला; (स्त्री.) अपवित्रता।
 अशुचित्व—(सं. पुं.) देखें 'अशुचिता'।
 अशुद्ध—(सं. वि.) दोषयुक्त, अपवित्र।
 अशुद्धता—(सं.स्त्री.) अपवित्रता, गलती।
 अशुद्धि—(सं. स्त्री.) दोष।
 अशुन—(हिं. पुं.) अश्विनी नक्षत्र।
 अशुभ—(सं.पुं.) अमङ्गल, पाप, अपराध; (वि.) बुरा।
 अशुभ्र—(सं. वि.) कृष्ण, काला।
 अशुभ्रक—(सं. वि.) जो मूर्खा न हो, हरा, तर।
 अशुभ्र्य—(सं. वि.) पूर्ण, अहीन, भरा हुआ।
 अशुभ्र्य—(सं. वि.) विना सौंग का।
 अशुभ्र्य—(सं. वि.) समूचा, शेषरहित, पूरा, नमाप्त, विना छोर या अन्त का।

अशोपता—(सं. स्त्री.) पूर्णता।
 अशोक—(सं. पुं.) एक वृक्ष जिसकी पत्तियाँ आम की पत्तियों की तरह लंबी तथा लहरियादार होती हैं; (वि.) शोक-रहित; -पुष्प (पुं.), -मंजरी—(स्त्री.) दण्डक छन्द का एक भेद; -वाटिका—(स्त्री.) अशोक की वाटिका, रम्य उद्यान, रावण का इस नाम का बगीचा जिसमें उसने सीता को ले जाकर रक्खा था।
 अशोच—(सं. पुं.) शोक का न होना।
 अशोधन—(सं. पुं.) अशुद्धता, मैलापन।
 अशोधित—(सं. वि.) न शोध हुआ, शुद्ध न किया हुआ।
 अशोभित—(सं. वि.) कुरूप, कुत्सित।
 अशोष्य—(सं. वि.) न सुखाने योग्य।
 अशौच—(सं. पुं.) अशुद्धता, अपवित्रता, वह अशुद्धि जो परिवार में जन्म या मृत्यु होने पर हिन्दुओं में मानी जाती है; (वि.) जो शौच या शुद्ध न हो।
 अशौर्य—(सं. पुं.) वीरता का अभाव; (वि.) पराक्रमशून्य।
 अश्म—(सं. पुं.) पर्वत, पहाड़, पत्थर।
 अश्मक—(सं. पुं.) भारतवर्ष के दक्षिण के एक देश का नाम, त्रिवाङ्कुर।
 अश्मकर—(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना।
 अश्मगर्भ—(सं. पुं.) मरकतमणि, पन्ना।
 अश्मरी—(सं. स्त्री.) मूत्रकृच्छ्र, पथरी नामक रोग।
 अश्मांतक—(सं.पुं.) चूल्हा, भट्ठी, दीवत।
 अश्रद्धा—(सं.स्त्री.) श्रद्धा का अभाव, अमक्ति।
 अश्रद्धय—(सं. वि.) आदर न करने योग्य।
 अश्रम—(हिं. पुं.) श्रम का अभाव, सुस्ती।
 अश्रांत—(सं.वि.) न थका हुआ; (अव्य.) निरन्तर, लगातार, सर्वदा।
 अश्रु—(सं. पुं.) नेत्र-जल, आँसू।
 अश्रुत—(सं. वि.) जो सुना न गया हो, जो सुन न पड़ता हो, श्रुति-विरुद्ध।
 अश्रुतपूर्व—(सं. वि.) जो पहिले न सुना गया हो, विलक्षण, अद्भुत।
 अश्रुपात—(सं. पुं.) रुलाई, आँसू गिराना, रोना।
 अश्रुपूर्ण—(सं. वि.) आँसू से भरा हुआ।
 अश्रयस्—(सं. वि.) अकल्याण, हीन, दुरा।
 अश्रेष्ठ—(सं.वि.) अनुत्तम, कुत्सित, बुरा।
 अश्रीत—(सं. वि.) श्रुतिविरुद्ध।
 अश्लाघनीय—(सं.वि.) अप्रशंसनीय, निन्द्य।
 अश्लिष्ट—(सं. वि.) असंगत, असंबद्ध।
 अश्लोल—(सं. वि.) कुत्सित, मद्दा, फूहड़, लज्जाजनक; (स्त्री.) गँवारू बोली।

अश्लोलता—(सं. स्त्री.) गाली-गलौज, फूहड़पन।
 अश्लेषा—(सं. स्त्री.) सत्ताईस नक्षत्रों में से नवाँ नक्षत्र।
 अश्व—(सं. पुं.) घोटक, घोड़ा, तुरंग।
 अश्वकर्ण—(सं. पुं.) एक प्रकार का शाल का वृक्ष।
 अश्वकुटी—(सं.स्त्री.) अस्तवल, घुड़साल।
 अश्वगंधा—(सं. स्त्री.) असगन्ध नामक पौधा-विशेष।
 अश्वगोष्ठ—(सं.पुं.) अश्वशाला, अस्तवल।
 अश्व-चिकित्सक—(सं.पुं.) अश्ववैद्य, सलौ-तरी।
 अश्व-जीवन—(सं. पुं.) चणक, चना।
 अश्वतर—(सं.पुं.) खच्चर, एक सर्प-विशेष।
 अश्वत्य—(सं. पुं.) पीपल का वृक्ष।
 अश्वत्थामा—(सं. पुं.) द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम।
 अश्वदूत—(सं. पुं.) घोड़सवार दूत।
 अश्वपति—(सं. पुं.) घोड़े का मालिक, घुड़सवार, सईस, केकय देश के राजाओं की उपाधि।
 अश्वपाल—(सं.पुं.) घोड़े का रक्षक, सईस।
 अश्वबंधन—(सं. पुं.) घोड़ा बाँधने की अगाड़ी-पिछाड़ी।
 अश्वमेध—(सं. पुं.) प्राचीन काल का एक प्रधान यज्ञ विशेष, (इसमें घोड़े के कपाल में जयपत्र बाँधा जाता था और इसको भूमण्डल में अपनी इच्छानुसार घूमने के लिए छोड़ देते थे, वाद में घोड़े की वलि चढ़ाई जाती थी।)
 अश्वयान—(सं. पुं.) घोड़े की सवारी।
 अश्वयुज्—(सं. पुं.) आश्विन (कुंआर) का महोना।
 अश्वरक्षक—(सं. पुं.) घोड़े का रक्षक, सईस।
 अश्वरथ—(सं. पुं.) जिस गाड़ी में घोड़ा जुता हो।
 अश्ववाह—(सं. पुं.) घुड़सवार।
 अश्ववद्य—(सं. पुं.) अश्व-चिकित्सक।
 अश्वशाला—(सं. पुं.) घुड़साल, अस्तवल।
 अश्वारूढ़—(सं. वि., पुं.) घोड़े पर चढ़ा हुआ, घुड़सवार।
 अश्वारोहण—(सं. पुं.) घोड़े की सवारी।
 अश्वारोही—(सं. पुं.) घोड़े का सवार।
 अश्विनी—(सं. स्त्री.) सत्ताईस नक्षत्रों के अन्तर्गत पहला नक्षत्र, घोड़ी।
 अश्विनीकुमार—(सं. पुं.) सूर्य के दो पुत्रों के नाम जो प्रमा नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए थे। ये देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं।
 अपाह—(सं. पुं.) देखें 'आपाह'।

अष्ट—(सं. वि., पुं) आठ की संख्या, ८ ।
 अष्टक—(सं. पुं.) आठ पदार्थों का संग्रह,
 आठ श्लोकों का स्तोत्र या काव्य ।
 अष्टकर्म—(सं. पुं.) चतुर्मुख ब्रह्मा ।
 अष्टकमल—(सं. पुं.) हठयोग के अनुसार
 मूलाधार से ललाट तक भिन्न-भिन्न स्थानों
 में आठ कमल माने गये हैं, इनके नाम—
 मूलाधार, विशुद्ध, मणिपूर, स्वाधि-
 ष्ठान, अनाहत, आज्ञाचक्र, सहस्रार
 चक्र और ब्रह्मरन्ध्र हैं ।
 अष्टका—(सं. स्त्री.) अष्टमी, इस तिथि
 के दिन का कृत्य, योग, श्राद्ध इत्यादि ।
 अष्टकुल—(सं. पुं.) पुराण के अनु-
 सार सर्प के आठ कुल—शेष, वासुकि,
 कम्बल, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख
 तथा कुलित ।
 अष्टकृष्ण—(सं. पुं.) वल्लभ-कुल के अनु-
 सार कृष्ण की आठ मूर्तियाँ—श्रीनाथ,
 नवनीतप्रिय, मथुरानाथ, विट्ठलनाथ,
 द्वारकानाथ, गोकुलनाथ, गोकुलचन्द्रमा
 और मदनमोहन ।
 अष्टकोण—(सं. पुं.) आठ कोने का क्षेत्र ।
 अष्टगंध—(सं. पुं.) आठ सुगन्धित द्रव्य ।
 अष्टगुण—(सं. वि.) अठगुना ।
 अष्टतारिणी—(सं. स्त्री.) भगवती की आठ
 मूर्तियाँ—तारा, उग्रा, महोग्रा, वज्रा, काली,
 सरस्वती, कामेश्वरी और चामुण्डा ।
 अष्टद्रव्य—(सं. पुं.) हवन में प्रयुक्त
 होनेवाले आठ द्रव्य; यथा—अश्वत्थ
 (पीपल), गूलर, पाकर, बट, तिल,
 सरसों, खीर और घृत ।
 अष्टघाती—(हि. वि.) आठ घातुओं से
 निर्मित, पुष्ट, दृढ़, उपद्रवी ।
 अष्टघातु—(सं. पुं.) आठ घातुएँ; यथा—
 सोना, चाँदी, ताँबा, राँगा, जस्ता,
 सीसा, लोहा, पारा ।
 अष्टपदी—(सं. स्त्री.) आठ पदवाला गीत ।
 अष्टपाद—(सं. पुं.) शरभ, टिड्डी, मकड़ी ।
 अष्टभाव—(सं. पुं.) वैद्यक के अनुसार—
 स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरमंग,
 ऐश्वर्य, कम्प, वैषर्ष्य तथा अश्रुपात—
 ये ८ भाव शरीर के होते हैं ।
 अष्टभुजा—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी ।
 अष्टमंगल—(सं. पुं.) आठ प्रकार के मंगल-
 द्रव्य, यथा—सिंह, दूध, हारी, कलश,
 चामर, बेजयन्ती, मेरी और दीपक ।
 अष्टम—(सं. वि.) आठवाँ ।
 अष्टमी—(सं. स्त्री.) किसी महीने के कृष्ण
 पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष की आठवीं तिथि ।
 अष्टमूर्ति—(सं. पुं.) गिरी की आठ मूर्तियाँ,

यथा—शर्व, भव, रुद्र, भीम, उग्र, पशुपति,
 ईशान और महादेव ।
 अष्टयोग—(सं. पुं.) योग की क्रियाओं के आठ
 भेद—यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
 प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं ।
 अष्टवंश—(सं. पुं.) काशी में सारस्वतों का
 एक समूह ।
 अष्टवर्ग—(सं. पुं.) आठ प्रकार की औष-
 धियों का वर्ग, इनके नाम ये हैं—मेदा,
 महामेदा, ऋद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक,
 काकोली और क्षौरकाकोली ।
 अष्टसिद्धि—(सं. स्त्री.) आठ प्रकार की
 सिद्धियाँ जिनके नाम—अणिमा, महिमा,
 लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व,
 वशित्व और कामादाशयिता हैं ।
 अष्टांग—(सं. पुं.) प्रणाम करने में—घुटना,
 पैर, हाथ, छाती, सिर, वचन, दृष्टि, और
 वृद्धि का विधान रहता है; दोनों पाँव,
 दोनों हाथ, दोनों घुटने, छाती और मस्तक
 को भूमि में टिकाकर प्रणाम करने
 को साष्टांग प्रणाम कहते हैं; आयु-
 र्वेद में—शाल्य, शालाक्य, काय-चिकित्सा,
 भूतविद्या, कौमारमृत्यु, अंगद-तन्त्र,
 रसायन-तन्त्र और वाजीकरण—अष्टांग
 कहलाते हैं; (वि.) अष्ट भाग का,
 अठपहला ।
 अष्टांगी—(सं. वि.) आठ अंगोंवाला ।
 अष्टाक्षर—(सं. पुं.) आठ अक्षरों का मन्त्र;
 (वि.) आठ अक्षरों का ।
 अष्टादश—(सं. वि., पुं.) अठारह, १८ ।
 अष्टाध्यायी—(सं. स्त्री.) पाणिनीय व्या-
 करण का ग्रन्थ जिसमें आठ अध्याय हैं ।
 अष्टापद—(सं. पुं.) सुवर्ण, घटूरा, मकड़ी,
 कैलास, सिंह ।
 अष्टावक्र—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम,
 टेढ़े शरीर का मनुष्य ।
 अष्टाह—(सं. वि.) आठ दिन ठहरनेवाला ।
 अष्टौला—(सं. स्त्री.) एक गुल्म रोग,
 गुठली, पथरी ।
 अस्तकीर्ण—(सं. वि.) जो संकीर्ण न हो,
 विशुद्ध, वैमेल ।
 अस्तकुल—(सं. वि.) विस्तीर्ण, खुला हुआ ।
 अस्तकेतित—(सं. वि.) संकेत न किया
 हुआ, न दूलाया हुआ ।
 अस्तकांत मांस—(सं. पुं.) अधिमान, नलमांस ।
 अस्तक्षेप—(सं. वि.) संक्षेप न होनेवाला ।
 अस्तस्य—(सं. वि.) अगणनीय, अनगिनत ।
 अस्तस्यता—(सं. स्त्री.) अनिश्चिता, अगणनीयता ।
 अस्तस्यत—(सं. वि.) अनेक, बहुसंख्य, बहूत ।
 अस्तंग—(सं. पुं.) संव्यवस्थिता; (वि.) न्यारा

असंगत—(सं. वि.) असम्बद्ध, अनुचित, ब्रेठीक ।
 असंगति—(सं. स्त्री.) अनुपयुक्तता, एक
 बलंकार का नाम ।
 असंगम—(सं. पुं.) संगम का अभाव;
 (वि.) विना मेल का ।
 असंज्ञा—(सं. स्त्री.) संज्ञा का अभाव,
 अचेत अवस्था ।
 असंत—(सं. वि.) खल, दृष्ट ।
 असंतान—(सं. वि.) वंशरहित ।
 असंताप—(सं. पुं.) सन्ताप या कष्ट का
 न होना ।
 असंतुष्ट, असंतोषित—(सं. वि.) संतोष-
 रहित, अतुष्ट ।
 असंतोष—(सं. पुं.) तृप्ति का अभाव, अवैर्य ।
 असंतोषी—(सं. वि.) सन्तोष न करनेवाला ।
 असंदिग्ध—(सं. वि.) सन्देह से रहित,
 प्रकट, स्पष्ट ।
 असंधि—(सं. पुं.) सन्धि या जोड़ का
 अभाव, सट्टे रहना ।
 असंपत्ति—(सं. स्त्री.) धन का अभाव ।
 असंपन्न—(सं. वि.) संपत्तिरहित ।
 असंपर्क—(सं. पुं.) सम्बन्ध का अभाव ।
 असंपूर्ण—(सं. वि.) जो पूर्ण न हो, अवूरा ।
 असंप्राप्य—(सं. वि.) विना पहुँच का ।
 असंयद्ध—(सं. वि.) सम्बन्धशून्य, अयथार्थ ।
 असंभव—(सं. वि.) जो संभव न हो,
 असंगत, विरुद्ध; (पुं.) एक काव्यालंकार
 जिसमें अनहोने विषय का होना दर-
 साया जाता है ।
 असंभार—(हि. वि.) विद्वाल, विस्तृत ।
 असंभावना—(सं. स्त्री.) संभावना का अभाव
 असंभावनीय—(सं. वि.) असंभव, असंगत,
 ऊटपटांग ।
 असंभ्रम—(सं. पुं.) भ्रम का अभाव, सन्देह
 न होना ।
 असंघत—(सं. वि.) अवद्ध, बन्धनशून्य ।
 असंयुक्त—(सं. वि.) वियुक्त, जो मिला न हो ।
 असंयोग—(सं. पुं.) संयोग का अभाव,
 मेल न होना ।
 असंख्य—(सं. वि.) विना रोक का, विना
 घिरा हुआ ।
 असंलग्न—(सं. वि.) असम्बद्ध, पृथक्, अलग ।
 असंतुष्ट—(सं. वि.) जो टपाना न हो, गुला हुआ ।
 असंशय—(सं. पुं.) सन्देह का अभाव;
 (अव्य.) वि.सन्देह ।
 असंश्लिष्ट—(सं. वि.) असंगत, जडा, विभक्त ।
 असंतसत—(सं. वि.) पृथक्, विभक्त ।
 असंसर्ग—(सं. पुं.) संसर्ग का अभाव,
 नाश न होना ।
 असंसारी—(सं. वि.) अलौकिक, अद्भुत,

निराला, जो संसार से दूर रहता हो।
 असंसिद्ध—(सं. वि.) अपूर्ण, जो पूरा न हो।
 असंसृष्ट—(सं. वि.) संसर्गरहित, जुदा, अलग।
 असंसृष्टत—(सं. वि.) गर्भावान इत्यादि
 संस्कार न किया हुआ, परिष्कार न
 किया हुआ।
 असंस्तुत—(सं. वि.) स्तुति न किया हुआ,
 अपरिचित।
 असंस्त्यत—(सं. वि.) चंचल, चुलबुला।
 असंहत—(सं. वि.) असंलग्न, इकट्ठा
 न होनेवाला।
 अस—(हिं. अव्य.) ऐसे, इस प्रकार; (वि.)
 इस प्रकार का।
 असक्ताना—(हिं. क्रि. अ.) आलस्य में पड़े
 रहना, ऊँघना, जैमाई लेना।
 असकल—(सं. वि.) असम्पूर्ण, अधूरा।
 असकृत—(सं. अव्य.) अनेक बार, बारंबार।
 असक्त—(हिं. वि.) शक्तिरहित, निर्वल।
 असंगंध—(हिं. पुं.) अश्वगन्धा, एक सीधी
 झाड़ी जिसकी मोटी जड़ औषधियों में
 प्रयुक्त होती है।
 असंगोत्र—(सं. वि.) भिन्न गोत्र का, जो
 एक ही गोत्र का न हो।
 असगुन—(हिं. पुं.) देखें 'अशकुन'।
 असज्जन—(सं. वि.) दुर्जन, दुष्ट, खल।
 असद्धिया—(हिं. पुं.) एक प्रकार का
 चित्तीदार सर्प।
 असती—(सं. स्त्री.) व्यभिचारिणी,
 कुलटा, पुंजाली।
 असत्—(सं. वि.) जो सच्चा न हो, निन्दित,
 अनित्य, जड़; -कर्म-(पुं.) निन्दित कार्य।
 असत्कार—(सं. पुं.) अपमान।
 असत्ता—(सं. पुं.) अविद्यमानता, अनस्तित्व,
 असाधुता।
 असत्त्व—(सं. पुं.) जो द्रव्य न हो।
 असत्य—(सं. वि.) मिथ्या, झूठा; (पुं.)
 झूठी बात।
 असत्यता—(सं. स्त्री.) मिथ्यात्व, झूठाई।
 असत्यवाद—(सं. पुं.) मिथ्यावाद, झूठी बात।
 असत्यवादी—(सं. वि.) झूठ बोलनेवाला।
 असत्संगी—(सं. वि.) कुसंग में पड़ा हुआ।
 असत्साधार—(सं. पुं.) सदाचार का अभाव।
 असत्दश—(सं. वि.) असमान।
 असत्भाव—(सं. पुं.) दृष्ट अभिप्राय।
 असत्द्वन्द्व्यहार—(सं. पुं.) दुष्ट व्यवहार।
 असत्न—(हिं. पुं.) देखें 'अयान'।
 असत्ना—(हिं. पुं.) एक वृक्ष जिसकी लकड़ी
 मकान के किवाड़ आदि में लगाई जाती है।
 असत्नान—(हिं. पुं.) स्नान, नहाना।
 असत्नायो—(हिं. स्त्री.) प्रेम।

असन्नद्ध—(सं. वि.) अतत्पर, अहंकारी,
 घमण्डी।
 असन्नधिधान—(सं. पुं.) दूर होने की स्थिति।
 असन्नहित—(सं. वि.) दूर का, जो पास
 न हो।
 असन्मान—(सं. पुं.) अपमान, ढिठाई।
 असपिंड—(सं. वि.) जो सपिण्ड न हो।
 असफल—(सं. वि.) जो सफल न हो,
 नाकामयाव।
 असफलता—(सं. स्त्री.) निष्फलता।
 असम्भ्य—(सं. वि.) अशिष्ट, गँवार, दुष्ट,
 उजड़।
 असम्भ्यता—(सं. स्त्री.) अशिष्टता, गँवार-
 पन, जंगलीपन।
 असमंजस—(सं. पुं.) अनुपयुक्त विषय,
 अड़चन, कठिनाई, (वि.) असंगत, अस-
 दृश, अतुल्य।
 असमंजस—(सं. पुं.) इक्ष्वाकु वंश के राजा
 सगर के ज्येष्ठ पुत्र का नाम।
 असम—(सं. वि.) अतुल्य, असदृश, ऊँचा-
 नीचा, एक काव्यालंकार जिससे उप-
 मान की अव्याप्ति दिखलाई जाती है।
 असमक्ष—(सं. पुं.) अप्रत्यक्ष; (वि.) देख
 न पड़नेवाला।
 असमग्र—(सं. वि.) असम्पूर्ण, जो पूरा न हो।
 असमत—(अ. स्त्री.) पवित्रता, सतीत्व।
 असमता—(हिं. पुं.) बराबर न होना।
 असमय—(सं. पुं.) अनिर्दिष्ट काल, बुरा
 काल, कुसमय।
 असमर्थ—(सं. वि.) अशक्त, दुर्बल, अयोग्य,
 कार्य में अक्षम, सामर्थ्यहीन।
 असम-वाण—(सं. पुं.) पंचशर, कामदेव।
 असम-सायक—(सं. पुं.) देखें 'असम-वाण'।
 असमस्त—(सं. वि.) असम्पूर्ण, अधूरा।
 असमान—(सं. वि.) अतुल्य, जो बराबर
 न हो; (हिं. पुं.) देखें 'आसमान'।
 असमानता—(सं. वि.) विरोध, विपमता।
 असमापित, असमाप्त—(सं. वि.) असम्पूर्ण,
 अधूरा।
 असमाप्ति—(सं. स्त्री.) अधूरापन।
 असमोक्ष्य—(सं. अव्य.) विना सोचे-विचारे।
 असमोचीन—(सं. वि.) अनुचित, अयुक्त।
 असमूचा—(हिं. वि.) असम्पूर्ण, अधूरा।
 असमूह—(सं. वि.) जो घनवान् न हो,
 दरिद्र, गरीब।
 असम्मत्—(सं. वि.) अस्वीकृत, पृथक्,
 विरुद्ध, मतभेद-युक्त।
 असम्मति—(सं. स्त्री.) अस्वीकृति।
 असम्मान—(सं. पुं.) अपमान, निरादर।
 असम्मोह—(सं. पुं.) यथार्थ ज्ञान।

असयाना—(हिं. वि.) (स्त्री. असयानी)
 मूर्ख, अनाड़ी।
 असर—(अ. पुं.) खोज, तलाश, पद-
 चिह्न, प्रभाव।
 असरन—(हिं. पुं.) देखें 'अशरण'।
 असरार—(हिं. अव्य.) लगातार।
 असल—(अ. वि.) जो नकल किया हुआ
 न हो, विशुद्ध, सही।
 असली—(हिं. वि.) असल, मुख्य, सच्चा,
 विशुद्ध।
 असवर्ण—(सं. वि.) असजातीय, विभिन्न
 वर्ण का।
 असवार—(हिं. पुं.) देखें 'सवार'।
 असवारी—(हिं. स्त्री.) देखें 'सवारी'।
 असह—(सं. वि.) अक्षम, न सहने योग्य।
 असहनशील—(सं. वि.) असहिष्णु, न
 सहनेवाला।
 असहनशीलता—(सं. स्त्री.) चिड़चिड़ापन।
 असहनीय—(सं. वि.) दुःसह, असह, न
 सहने योग्य।
 असहयोग—(सं. पुं.) मिलकर काम न
 करना, महात्मा गांधी का प्रचार किया
 हुआ आन्दोलन जो राज्य से असन्तोष
 प्रगट करने के लिये किया जाता था।
 असहाय—(सं. वि.) निरबलम्ब, निःसहाय,
 अनाथ, जिसको किसी का सहारा न हो।
 असहायता—(सं. स्त्री.) निराश्रयता।
 असहित—(सं. वि.) निःसंग, विना सहाय का।
 असहिष्णु—(सं. वि.) असहनशील, कलह-
 प्रिय, झगड़ालू, चिड़चिड़ा।
 असहिष्णुता—(सं. स्त्री.) असहनशीलता।
 असही—(हिं. वि.) ईर्ष्यालू, दूसरे की
 बढ़ती देखकर जलनेवाला।
 असह्य—(सं. वि.) असहनीय, न सहन
 करने योग्य।
 असांच—(हिं. वि.) असत्य, झूठा, जो सच्चा
 न हो।
 असांप्रतम्—(सं. अव्य.) अयोग्य, अनुचित।
 असा—(अ. पुं.) डंडा, सोंटा, चाँदी या
 सोने के पत्र से मढ़ा हुआ डंडा जो वारात
 इत्यादि में सेवक लोग लेकर चलते हैं।
 असाई—(हिं. वि.) अशिष्ट, असम्भ्य।
 असाक्षात्—(सं. अव्य.) परोक्ष में।
 असाढ—(हिं. पुं.) आपाढ़ मास, वर्ष का
 चौथा महीना।
 असाढा—(हिं. पुं.) बटे हुए रेशम का तागा।
 असाड़ी—(हिं. पुं.) आपाढ़ महीने में होने-
 वाला; (स्त्री.) आपाढ़ में बोया जाने-
 वाला अन्न, गुरुपूर्णिमा।
 असाध—(हिं. वि.) असाध्य।

असाधारण—(सं. वि.) असामान्य, विशेष ।
 असाधु—(सं. वि.) दुर्जन, अशिष्ट, दुष्ट, अविनीत ।
 असाधुता, असाधुत्व—(सं. स्त्री., पुं.) दुष्टता ।
 असाध्य—(सं. वि.) कठिन, दुष्कर, न करने योग्य ।
 असान्निध्य—(सं. पुं.) अन्तर, दूरी ।
 असासर्थ—(सं. पुं.) अक्षमता ।
 असासयिक—(सं. वि.) असमयोचित, अकालिक, विना समय का ।
 असासान्य—(सं. वि.) असाधारण, विशेष ।
 असासी—(हिं. पुं.) व्यक्ति, प्राणि, पुरुष, कृषक, ऋणी, लगान देकर खेत जोतने-वाला, अधिवासी, अपराधी, देनदार, कोई काम देनेवाला मनुष्य ।
 असार—(सं. वि.) सारशून्य, निःसार, शक्तिरहित, व्यर्थ, तुच्छ, निर्बल ।
 असारता—(सं. स्त्री.) निःसारता, अयोग्यता ।
 असावधान—(सं. वि.) जो सचेत न हो ।
 असावधानता—(सं. स्त्री.), असावधानी—(हिं. स्त्री.) प्रमाद, उपेक्षा ।
 असावरी—(हिं. स्त्री.) एक रागिणी विशेष ।
 असाहस—(सं. पुं.) साहस का अभाव ।
 असाहसिक—(सं. वि.) जो साहसी न हो, शान्त ।
 असाहाय्य—(सं. वि.) विना सहायता का ।
 असि—(सं. पुं.) खड्ग, तलवार ।
 असिजीवी—(सं. वि.) खड्ग से जीविका चलानेवाला मनुष्य ।
 असित—(सं. वि.) काले रंग का, कुटिल, दुष्ट, डेडा ।
 असित-ग्रीव—(सं. पुं.) अग्नि, मोर ।
 असिता—(सं. स्त्री.) यमुना नदी ।
 असितागन—(सं. पुं.) लंगर ।
 असिद्ध—(सं. वि.) निष्फल, अपक्व, अपूर्ण, कच्चा, असफल, अप्रमाणित, व्यर्थ, अधूरा, योग में सिद्धि-रहित ।
 असिद्धि—(सं. स्त्री.) अप्राप्ति, अनिष्पत्ति, कच्चापन, अपूर्णता ।
 असिधार—(सं. स्त्री.) तलवार की धार ।
 असिपत्र—(सं. पुं.) ईश का पौधा, तलवार का कोष्ठ या वेष्टन, एक नरक विशेष ।
 असिपत्र-वन—(सं. पुं.) एक नरक का नाम ।
 असी—(सं. स्त्री.) एक नदी जो काशी में गंगा से मिलती है ।
 असौम्य—(सं. वि.) सीमारहित, अनन्त, अगाध, अपार ।
 असौम्य—(हिं. स्त्री.) देखें 'आशुत्' ।
 असौमना—(हिं. नि.स.) आजीर्ण देना ।
 असुन्दर—(सं. वि.) कुत्स, अनुचित ।

असु—(सं. पुं.) प्राणवायु ।
 असुकर—(सं. वि.) दुष्कर, कठिन ।
 असुख—(सं. पुं.) दुःख, कष्ट ।
 असुखी—(सं. वि.) सुखरहित, दुःखी ।
 असुग—(हिं. वि.) शीघ्रगामी, आशुग; (पुं.) वायु, तीर ।
 असुगम—(सं. वि.) दुर्गम, दुर्बोध, क्लिष्ट ।
 असुचि—(हिं.) देखें 'अशुचि' ।
 असुप्त—(सं. वि.) न सोता हुआ, अनिद्र ।
 असुविधा—(सं. स्त्री.) कठिनाई, अड़चन ।
 असुभ—(हिं. वि.) देखें 'अशुभ' ।
 असुर—(सं. पुं.) राक्षस, दैत्य, प्रेत, सूर्य, राहु, वादल, खल, दुष्ट, पृथ्वी, एक प्रकार का उन्माद रोग ।
 असुरक्ष्य—(सं. वि.) अरक्ष्य, कठिनता से बचाने योग्य ।
 असुर-गुरु—(सं. पुं.) असुरों के गुरु, शुक्राचार्य ।
 असुर-भाया—(सं. स्त्री.) मूर्तों का जादू ।
 असुर-रिपु—(सं. पुं.) विष्णु ।
 असुरसेन—(सं. पुं.) एक दैत्य जिसकी देह पर गया नामक नगर बसा है ।
 असुराई—(हिं. स्त्री.) नीचता, दुष्टता ।
 अनुराधिप—(सं. पुं.) असुरों का अध्यक्ष ।
 अनुरारि—(सं. पुं.) देवता, विष्णु ।
 असुलभ—(सं. वि.) असाध्य, दुष्प्राप्य ।
 असुविधा—(हिं. स्त्री.) अड़चन, कष्ट ।
 असुहाती—(हिं. वि.) अशोभन, बुरा ।
 असुहृद्—(सं. वि.) शत्रु, रिपु ।
 असूक्ष्म—(सं. वि.) स्थूल, मोटा ।
 असूक्ष्म—(हिं. वि.) अपार, विस्तृत, जो देख न पड़े, अन्वकारपूर्ण, कठिन, विकट ।
 असूत—(हिं. वि.) प्रतिकूल, विरुद्ध ।
 असूया—(सं. स्त्री.) दूसरे के गुण में दोष लगाना, ईर्ष्या, शत्रुता, डाह ।
 असूयपश्या—(सं. स्त्री.) अन्तःपुर में रहनेवाली स्त्री, साध्वी स्त्री ।
 असूक्—(सं. पुं.) रक्त, लोह ।
 असूगधारा—(सं. स्त्री.) रक्त का प्रवाह ।
 असूग—(हिं. वि.) असह्य, न सहने योग्य ।
 असेवन—(सं. पुं.) उपेक्षा ।
 असेवित—(सं. वि.) अनपेक्षित, मूला हुआ ।
 असेव्य—(सं. वि.) सेवा के अयोग्य, काम में न आने योग्य ।
 असेसमेट—(अं. पुं.) आध-कर, भूमिकर आदि लगाने का कार्य ।
 असेसमेट-आफिसर—(अं. पुं.) कर-निर्धारण अधिकारी ।
 असैला—(हिं. वि.) शैली (रीति) के विरुद्ध काम करनेवाला, कुमार्गी, अनुचित व्यवहार करनेवाला ।

असों, असौं—(हिं. अव्य.) इस साल, वर्तमान वर्ष में ।
 असोक—(हिं. वि.) देखें 'अशोक' ।
 असोकौ—(हिं. वि.) शोक न करनेवाला ।
 असोच—(हिं. वि.) शोच न करनेवाला, चिन्तारहित ।
 असोज—(हिं. पुं.) आश्विन मास, ववार का महीना ।
 असोस—(हिं. वि.) शुष्क न होनेवाला, जो सूखता न हो ।
 असौन्दर्य—(सं. पुं.) सौन्दर्य का अभाव ।
 असौघ—(हिं. स्त्री.) दुर्गन्ध ।
 असौच—(हिं. पुं.) देखें 'अशौच' ।
 असौम्य—(सं. वि.) अप्रिय, डरावना ।
 अखलित—(सं. वि.) जो फिसलता न हो, स्थायी, टिकाऊ ।
 अस्तंगत—(सं. वि.) अदृश्य, डूबा हुआ ।
 अस्त—(सं. वि.) फेंका हुआ, निकाला हुआ, हटाया हुआ, नष्ट, अदृश्य, डूबा हुआ, छिपा हुआ; (पुं.) लोप, अद्वयन ।
 अस्तकोप—(सं. वि.) जो क्रोध करके ठंडा पड़ गया हो ।
 अस्तमन—(सं. पुं.) सूर्यादि ग्रहों के अस्त होने का काल ।
 अस्तमित—(सं. वि.) छिपा हुआ ।
 अस्तव्यस्त—(सं. वि.) अव्यवस्थित, उलटा-पुलटा, बिखरा हुआ ।
 अस्ताचल—(सं. पुं.) पश्चिमाचल पर्वत ।
 अस्ति—(सं. स्त्री.) स्थिति, विद्यमानता ।
 अस्तित्व—(सं. पुं.) विद्यमानता ।
 अस्तीन—(हिं. स्त्री.) देखें 'आस्तीन' ।
 अस्तु—(सं. अव्य.) ऐसा ही हो, अच्छा, मला, जो हो ।
 अस्तुति—(सं. पुं.) अपकीर्ति, निन्दा, बुराई; (हिं. स्त्री.) स्तुति, प्रशंसा ।
 अस्तैय—(सं. पुं.) चोरी न करना, साहूकारी ।
 अस्त्र—(सं. पुं.) शत्रु के ऊपर फेंककर चलाने का हथियार, आयुध, तलवार, चिकित्सक का यस्त्र ।
 अस्त्रकार—(सं. वि.) अस्त्र बनानेवाला ।
 अस्त्र-चिकित्सक—(सं. पुं.) चौर-फाड़ करनेवाला, शल्य-चिकित्सक ।
 अस्त्र-चिकित्सा—(सं. स्त्री.) चोरी की चौरफाड़, शल्य-चिकित्सा ।
 अस्त्रजीवी—(सं. पुं.) अस्त्र से युद्ध करके जीविका चरानेवाला ।
 अस्त्रचारी—(सं. पुं.) अस्त्र प्रारण करने-वाला मनुष्य ।
 अस्त्रविद्—(सं. पुं.) अस्त्र विद्या में निपुण व्यक्ति ।
 अस्त्रविद्या—(सं. स्त्री.) वह शास्त्र जिसमें

युद्ध इत्यादि करने के नियम बतलाये जाते हैं, बाण-विद्या ।
 अस्त्रवेद—(सं. पुं.) वनवेद ।
 अस्त्रवेद्य—(सं. पुं.) अस्त्र-चिकित्सक ।
 अस्त्र-शस्त्र—(सं. पुं.) युद्ध करने के सब प्रकार के हथियार ।
 अस्त्र-शाला—(सं. स्त्री.) अस्त्रागार, हथियार रखने का स्थान ।
 अस्त्र-शिक्षा—(सं. स्त्री.) अस्त्रों के चलाने की शिक्षा ।
 अस्त्रागार—(सं. पुं.) हथियारघर ।
 अस्त्राहत—(सं. वि.) हथियार से मारा हुआ, बाण-विद्ध ।
 अस्त्रि—(सं. पुं.) अस्त्रवारी मनुष्य ।
 अस्त्री—(हिं. वि.) हथियारबन्द ।
 अस्थान—(सं. पुं.) कुठौर, बुरा स्थान; (हिं. पुं.) स्थान ।
 अस्थायी—(सं. वि.) अस्थिर, चंचल ।
 अस्थावर—(सं. वि.) जो चल-फिर सकता हो, जंगम ।
 अस्थिर—(सं. स्त्री.) हाड़, हड्डी ।
 अस्थिति—(सं. स्त्री.) स्थिति का अभाव, अस्थिरता ।
 अस्थि-पंजर—(सं. पुं.) हड्डी की ठठरी ।
 अस्थिमय—(सं. वि.) अस्थिनिर्मित, जिसमें केवल हड्डी ही बच गई हो ।
 अस्थिमाला—(सं. स्त्री.) हड्डी की बनी हुई माला ।
 अस्थिमाली—(सं. पुं.) शिव ।
 अस्थिसार—(हिं. पुं.) मज्जा ।
 अस्थिर—(सं. वि.) कम्पायमान, चंचल, अनिश्चित; (हिं. वि.) स्थिर, टिका हुआ ।
 अस्थिरता—(सं. स्त्री.) अस्थिति, अनिश्चितता, चंचलता ।
 अस्थि-शेष—(सं. वि.) जिसके शरीर में केवल हड्डी ही देख पड़े ।
 अस्थिसंचय—(सं. पुं.) शवदाह के बाद बची हुई हड्डियों को इकट्ठा करना ।
 अस्थि-संघि—(सं. स्त्री.) हड्डी का जोड़ ।
 अस्थूल—(सं. वि.) सूक्ष्म, पतला; (हिं.) स्थूल, मोटा ।
 अस्थ्यर्थ—(सं. पुं.) चपलता, चंचलता ।
 अस्नान—(हिं. पुं.) देखें 'स्नान' ।
 अस्निग्ध—(सं. वि.) कर्कश, जो चिकना न हो, निर्दय ।
 अस्नेह—(सं. पुं.) स्नेह का अभाव ।
 अस्पताल—(हिं. पुं.) चिकित्सालय ।
 अस्पृश—(सं. पुं.) स्पर्श का अभाव, विरक्त; (हिं. पुं.) स्पर्श ।
 अस्पृशनीय—(सं. वि.) स्पर्श न करने योग्य ।

अस्पृशित—(सं. वि.) न छूआ हुआ ।
 अस्पृश्य—(सं. वि.) न छूने योग्य ।
 अस्पृष्ट—(सं. वि.) स्पर्श न किया हुआ ।
 अस्पृह—(सं. वि.) इच्छा न रखनेवाला, विरक्त, निस्पृह ।
 अस्पृहा—(सं. स्त्री.) इच्छा का अभाव ।
 अस्फुट—(सं. वि.) अव्यक्त, जो स्पष्ट न हो, गुप्त, गूढ़ ।
 अस्फुटता—(सं. स्त्री.) अस्पष्टता ।
 अस्मदीय—(सं. वि.) हमारा, हम लोगोंका ।
 अस्मरणीय—(सं. वि.) याद न आनेवाला ।
 अस्मित—(सं. वि.) अविकसित, न खिला हुआ ।
 अस्मिता—(सं. स्त्री.) आत्मश्लाघा, अहंकार, मोह ।
 अस्त्र—(सं. पुं.) कोना, केश, रक्त, आँसू ।
 अस्त्रज—(सं. पुं.) मांस ।
 अस्त्रप—(सं. पुं.) राक्षस, जोंक, खटमल, मूलनक्षत्र; (वि.) लोह पीनेवाला ।
 अस्तु—(सं. पुं.) देखें 'अश्रु' ।
 अस्त, अस्तौ—(अ. वि.) देखें 'असल, असली' ।
 अस्तोक—(हिं. पुं.) देखें 'श्लोक' ।
 अस्वच्छ—(सं. वि.) कलुष, घुंघला ।
 अस्वतंत्र—(सं. वि.) पराधीन ।
 अस्वप्न—(सं. पुं.) निद्रा का अभाव, देवता ।
 अस्वस्थ—(सं. वि.) रुग्ण, रोगी ।
 अस्वस्थता—(सं. स्त्री.) व्यथा, पीड़ा ।
 अस्वातंत्र्य—(सं. पुं.) पराधीनता ।
 अस्वादु—(सं. वि.) नीरस, बिना स्वाद का ।
 अस्वाभाविक—(सं. वि.) प्रकृति-विरुद्ध, कृत्रिम, वनावटी ।
 अस्वार्थ—(सं. पुं.) स्वार्थ का अभाव, निस्पृहता; (वि.) निस्वार्थ ।
 अस्वास्थ्य—(सं. पुं.) रुग्णता ।
 अस्वीकार—(सं. पुं.) स्वीकार का अभाव ।
 अस्वीकृत—(सं. वि.) स्वीकार न किया हुआ ।
 अस्ती—(हिं. वि., पुं.) सत्तर और दस; यह संख्या, ८० ।
 अहं—(सं. पुं.) मैं; (हिं. पुं.) अभिमान, अहंकार ।
 अहंकार—(सं. पुं.) आत्मभिमान, गर्व, घमंड, आत्म-सत्ता ।
 अहंकारी—(सं. पुं.) अभिमानी, घमंडी ।
 अहंता—(हिं. स्त्री.) अभिमान, गर्व ।
 अहंमति—(सं. स्त्री.) अहंकार, गर्व ।
 अहंवाद—(सं. पुं.) धृष्टता, व्यक्तिवाद ।
 अह—(सं. पुं.) दिन, सूर्य; (हिं. अव्य.) दुःख, आश्चर्य इत्यादि सूचक शब्द ।
 अहक—(हिं. स्त्री.) अभिलाषा, इच्छा ।
 अहकना—(हिं. क्रि. प्र.) लालसा करना, उत्कट इच्छा होना ।

अहृष्टाना—(हिं. क्रि. स.) आहट लेना, पता लगाना, ढूँढना, खोजना ।
 अहृदी—(अ. पुं.) योद्धा, सिपाही; (वि.) सुस्त, आसकती; -खाना—(पुं.) अह-दियों के रहने का स्थान ।
 अहन्—(सं. पुं.) दिन ।
 अहनिशि—(हिं. अव्य.) देखें 'अहर्निश' ।
 अहमेव—(सं. पुं.) अहंकार, गर्व, घमंड, आत्मश्लाघा ।
 अहर—(सं. पुं.) गणित में वह राशि जो बँट न सकती हो ।
 अहरणीय—(सं. वि.) अहार्य, हरण न किया जानेवाला ।
 अहरन—(हिं. स्त्री.) स्थूला, निहाई ।
 अहरना—(हिं. क्रि. स.) लकड़ी को गढ़ना, डौलना ।
 अहरनि—(हिं. पुं.) देखें 'अहरन' ।
 अहरहः—(सं. अव्य.) प्रतिदिन ।
 अहरा—(हिं. पुं.) सुलगाये जानेवाले कंडों का ढेर, ठहरने का स्थान, पानी पीने का अड्डा ।
 अहरागम—(सं. पुं.) प्रातःकाल की उपस्थिति ।
 अहरी—(हिं. स्त्री.) पशुओं के पानी पीने का जलागार ।
 अहर्निश—(सं. अव्य.) दिनरात, सर्वदा ।
 अहर्मुख—(सं. पुं.) प्रातःकाल, सवेरा ।
 अहर्ष—(सं. वि.) मन्द-भाग्य ।
 अहर्षित—(सं. वि.) जो प्रसन्न न हो ।
 अहलाद—(हिं. पुं.) देखें 'आहलाद' ।
 अहल्य—(सं. वि.) जो हल से न जोता जाता हो, अकर्ष्य, अकर्षणीय ।
 अहल्या—(सं. वि.) गीतम ऋषि की पत्नी का नाम ।
 अह्वनीय—(सं. वि.) हवन के अयोग्य ।
 अह्वात—(हिं. पुं.) अहिवात, सोहाग ।
 अहस्पति—(सं. पुं.) सूर्य ।
 अहह—(सं. अव्य.) क्लेश, शोक, आश्चर्य इत्यादि सूचक अव्यय, हाय ! अरे !
 अहा—(हिं. अव्य.) प्रसन्नतासूचक अव्यय ।
 अहार—(हिं. वि.) देखें 'आहार' ।
 अहारना—(हिं. क्रि. स.) भोजन करना, चिपकाना, माँड़ी लगाना, लकड़ी छीलना ।
 अहारी—(हिं. वि.) देख 'आहारी' ।
 अहार्य—(सं. वि.) अमेद्य, न चोरी होने योग्य ।
 अहाहा—(हिं. अव्य.) हर्षसूचक अव्यय ।
 अहिंसक—(सं. वि.) हिंसा न करनेवाला ।
 अहिंसा—(सं. स्त्री.) अद्रोह, किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देना ।
 अहिंस्—(सं. वि.) हिंसा न करनेवाला ।
 अहिं—(सं. पुं.) सपें, सूर्य, राहु, पथिक,

जल, वादल, अरलेपा नक्षत्र, पृथ्वी, गी;
(वि.) प्रसिद्ध, व्याप्त।
अहिक-(सं. पुं.) अन्वा सर्प, सेमर का वृक्ष।
अहिगण-(सं. पुं.) एक वृत्त जिसके
आदि में एक गुरु और अन्त में तीन लघु
मात्राएँ रहती हैं।
अहिच्छत्र-(सं. पुं.) भारतवर्ष के
दक्षिण का एक प्राचीन देश, मथुरा।
अहिजिह्वा-(सं. स्त्री.) नागफनी का पौधा।
अहित-(सं. पुं.) शत्रु, वैरी, अपकार, हानि;
(वि.) हानिकारक, अयोग्य, प्रतिकूल।
अहितकारी-(सं. वि.) मलाई न करनेवाला।
अहिनाथ-(सं. पुं.) सर्पों का राजा,
सर्पराज, शेषनाग।
अहिपति-(सं. पुं.) शेषनाग।
अहिकेन-(सं. पुं.) साँप की लार या विष,
अफीम।
अहिकेनवीज-(सं. पुं.) पोस्ते का दाना।
अहिवेल-(हि. स्त्री.) नागवेल (पान),
अहिवल्ली।
अहिम-(सं. वि.) जो ठंडा न हो, गरम।
अहिमान-(हि. पुं.) चाक के बीच का
गड्ढा जो चूल पर रक्खा जाता है।
अहिर-(हि. पुं.) देखें 'अहीर'।
अहिरिपु-(सं. पुं.) गरुड़, नकुल, मयूर।
अहिलव-(हि. पुं.) अधिकता, बढ़ती।
अहिवर-(हि. पुं.) दोहे का एक भेद।
अहिवल्ली-(सं. स्त्री.) नागवल्ली, पान।
अहिवात-(हि. पुं.) स्त्री का सौभाग्य,
सोहाग।
अहिवातिन, अहिवाती-(हि. स्त्री.)
सौभाग्यवती स्त्री, सधवा, सोहागिन।
अहीन-(सं. वि.) समग्र, पूरा, भरा हुआ।
अहीर-(सं. पुं.) आमीर, न्वाला, यादव।
अहीश-(सं. पुं.) सर्पराज, शेषनाग।
अहुटना-(हि. क्रि. अ.) निवृत्त होना, हट
जाना, भागना।
अहुटाना-(हि. क्रि. स.) भगाना, निकाल
देना, दूर करना।
अहुठ-(हि. वि.) साढ़े तीन, साढ़े तीन
फेरा खाया हुआ।
अहुत-(सं. वि.) होम न किया हुआ।
अहुठन-(हि. पुं.) ठीहा जिस पर चारा
काटा जाता है।
अहे-(हि. अव्य.) अरे! अहो!
अहेड-(सं. वि.) माननीय, प्रतिष्ठित।
अहेतु-(सं. वि.) बिना कारण का,
व्यर्थ, हेतुशून्य।
अहेतुक-(सं. वि.) देते 'अहेतु'।
अहेर-(हि. पुं.) आखेट, मृगवा।

अहेरी-(हि. पुं.) आखेट करनेवाला, व्याध।
अहो-(सं. अव्य.) हाय, विक्कार, अरे,
वाहवाह, क्यों।
अहीरात्र-(सं. पुं.) दिनरात; (अव्य.)
सर्वदा, निरन्तर।
अहीर-वहीर-(हि. अव्य.) फिर-फिर,
बारंबार।
अहीरा-वहीरा-(हि. पुं.) विवाह की वह
रीति जिसमें नववधू ससुराल पहुँचकर
उसी दिन अपने घर वापस आ जाती है।

आ

आ-हिन्दी वर्णमाला का दूसरा अक्षर
(स्वर)। यह 'अ' का दीर्घ रूप
है; (पुं.) महेश्वर; (स्त्री.) लक्ष्मी।
आँ-(हि.) आश्चर्यसूचक अव्यय; (पुं.)
बालक के रोने का शब्द।
आँक-(हि. पुं.) अंक, चिह्न, वर्ण, अक्षर,
भाग, हिस्सा, अंश, कुल, पहिये के धुरे
का ढपना, क्रोड़, गोद।
आँकड़ा-(हि. पुं.) अंक, संख्या, पेंच, फन्दा।
आँकना-(हि. क्रि. स.) अंकित करना,
कूतना, ठहराना, दाम लगाना, अनुमान
करना, लिखना।
आँकनी-(हि. स्त्री.) लेखनी, कलम।
आँकर-(हि. वि.) गहरा, बहुत, अधिक,
मँहगा।
आँकुस-(हि. पुं.) देखें 'अंकुश'।
आँकू-(हि. पुं.) कूतनेवाला, दाम लगाने-
वाला, आँकनेवाला।
आँख-(हि. स्त्री.) देखने की इन्द्रिय
जिससे रूप, रंग, विस्तार तथा आकार
का ज्ञान होता है, चक्षु, नेत्र, दृष्टि,
ध्यान, विवेक, कृपा, सन्तति, सूई का छिद्र,
ईख, आलू इत्यादि में वह स्थान जहाँ
से अँखुआ निकलता है; (मुहा.)-आना
(उठना)-आँख लाल होना तथा
सूजन होना; -उठाना-देखना, कष्ट देने
का प्रयत्न करना; -का तारा-अति प्रिय
व्यक्ति; -का अंधा नाँठ का पूरा-
बहुत धनी पर मूर्ख व्यक्ति; -का अंधा
नाम नयनसुख-व्यर्थ का शौकीन; -का
काँटा-आँखों में खटकनेवाली बात या
व्यक्ति; -का फाजल चुराना-सामने
रखी हुई चीज चुरा ले जाना; -का
जाला-एक नेत्र-रोग; -कान खुला
रखना-सतर्क या सावधान रहना; -का
परदा उठाना-भ्रम या मोह दूर होना;
-यने किरकिरी-आँस का काँटा; -यने

पुतली-कनीनिका, अति प्रिय पदार्थ
या व्यक्ति; -के डोरे-आँख में की
महीन नसें; -खुलना-जागना, नींद टूटना,
ज्ञान होना, भ्रम हट जाना; -खोलना-
देखना, ताकना, सावधान होना;
-गड़ना-किरकिरी पड़ने पर आँख दुखना
प्राप्ति की तीव्र लालसा होना; -गड़ना-
टककी लगाकर देखना; -चढ़ना-
उन्माद या नींद न आने से पलकों का
तन जाना; -चमकाना-आँखों से इशारा
करना; -चरने जाना-नजर गायब
होना; -चौर-चौर कर देखना-देखें 'आँख
गड़ना'; -चुराना-लज्जा से सामने न
ताकना; -झपना-आँख बन्द हो जाना;
-झोपना-लज्जित या अपमानित होना;
-टेंदी करना-अकृपादृष्टि करना;
-डबडबाना-आँख में आँसू भर जाना;
-तरेरना-क्रोध से देखना; -दिलाना-
क्रोध दिखलाना; -न ठहरना-चमक
से आँख झिप जाना; -न पसीजना-कृपा
या दया न होना; -निकालना-क्रोधपूर्ण
दृष्टि से देखना; -नीची करना या
होना-लज्जावश मुँह नीचा कर लेना;
-पथराना-आँख का प्रकाश चला
जाना; -पर पर्दा पड़ना-भ्रम में
पड़ना, ज्ञानरहित होना; -पसारना
या फैलाना-दूरदर्शी बनना; -फड़कना-
पलकमें स्फुरण होना; -फाड़कर देखना-
मली-माँति आँख खोलकर देखना;
-फिर जाना-चित्त हटा लेना, कृपा दृष्टि
फेर लेना; -फूटना-अन्धा होना, कुड़ना,
बुरा लगना; -फेरना-प्रतिकूल आचरण
करना, कृपादृष्टि हटा लेना; -फोड़ना-
अन्धा बना देना; बहुत देर तक पढ़ते
रहना या महीन सूई-कारी आदि करते
रहना; -त्रंद किए हुए-बिना सोचे-
विचारे; -त्रंद होना-मरण को प्राप्त
होना; -त्रचाना-सामना न करना;
-त्रनाना-शस्त्र-क्रिया द्वारा मोतियाबिंद
आदि रोगों का उपचार करना; -बिछाना-
आदर या स्नेहपूर्वक स्वागत करना;
-बँठना-आँस का अन्धा बन जाना;
-भर आना-नेत्र समल होना; -भर
देखना-पूर्ण रूप से आँख खोलकर
देखना; -भर-भराना-बार बार पलक
गिराना, संकेत करना; -भारना-आँस
से संकेत करना; इस प्रकार मना करना
-निलाना-आँख सामने फाँके देना;
-मूँद लेना-देखी अनदेखी करना, भर
जाना; -में लटकना-आँस में गड़ना; -

—में सून उतरना—क्रोध से आँखें लाल हो जाना; —में गड़ना (चुभना)—बुरा लगना; —में चर्चो चढ़ना—अहंकार के कारण किसी पर ध्यान न देना; —में धूल डालना—प्रत्यक्ष रूप से छलना या धोखा देना; —रखना—चाँकसी रखना; —लगना—नींद आ जाना, प्रीति होना; —लाल करना—क्रोध दिखलाना; —सँकना—प्रिय को देखकर आँखों का सुख लेना; —से आँख मिलाना—नजर बराबर करना; —होना—परख होना, विवेक या पहिचान होना, समझ होना; आँखें धुलना—आँखें चार होना या करना; आँखें चढ़ना—नींद आदि के कारण पलकों का चढ़ जाना; आँखें चार करना—आँखें मिलाकर देखना; आँखें ठंडी होना—जी भरना, तृप्त होना; आँखें उबडवाना—आँखों में आँसू छल-छला जाना; आँखें तरेरना—क्रोध की दृष्टि से देखना; आँखें दौड़ाना—नजर दौड़ाना, इधर-उधर देखना; आँखें फिर जाना—बेमुरौबत होना; आँखें बदल जाना—आँखें फिर जाना; आँखों की ठंडक—प्रिय व्यक्ति या वस्तु; आँखों के आग अँधेरा छाना या होना—सिर चकरा जाना, मूर्च्छित-प्राय होना, विपत्ति आदि में चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई पड़ना; आँखों के आगे या सामने नाचना या फिरना—सामने प्रकट होना, किसी की याद बराबर बनी रहना; आँखों देखा हुआ—प्रत्यक्ष देखा; आँखों पर पट्टी बाँध लेना—ध्यान न देना; आँखों पर परदा पड़ना—भ्रम होना, समझ में न आना; आँखों पर रखना—बड़ी खातिर या स्नेहपूर्वक अपने यहाँ रखना; आँखों में सून उतरना—आँखें लाल हो जाना; आँखों में चढ़ना—पसंद आना, जँचना; आँखों में चरबी छा जाना—धमंड से किसी की ओर ध्यान न देना; आँखों में चुभना—देखें 'आँख में गड़ना'; आँखों में टैसू, तीसी या सरसों फूलना—जो बात ध्यान में बनी हो वही सर्वत्र दिखाई पड़ना; आँखों में धूल झोंकना, डालना, देना या फेंकना—धोखा देना, ठगकर ले लेना; आँखों में नाचना—किसी की छवि बराबर मानस-पटल पर दिखाई देना; आँखों में बसना या रामाना—प्रेम-भावना में धर कर लेना; आँखों में शील होना—मुरौबत होना;

आँखों से उतरना—प्रेम की भावना से गिर जाना; आँखों से ओझल होना—सामने न रहना, दृष्टि से परे होना; आँखों से गिरना—आँखों से उतरना।
आकंप, आकंपन—(सं. पुं.) कंपन।
आकंपित—(सं. वि.) कांपता हुआ।
आँखा—(हिं. पुं.) चलनी।
आंग—(सं. वि.) शारीरिक, अंगधारी, अंग देश में उत्पन्न।
आँग—(हिं. पुं.) अंक, कुच, स्तन।
आँगन—(हिं. पुं.) अँगना, घरके भीतरका चौक।
आंगिक—(सं. वि.) अंग या शरीर संबंधी।
आंगार—(सं. वि.) अंगारका, अंगारसेवना।
आंगारिक—(सं. वि.) देखें 'अंगार'।
आंगिरस—(सं. वि.) अंगिरा ऋषिसे उत्पन्न।
आँगी—(हिं. स्त्री.) आँखा, अँगिया, महीन आँटा चालने की चलनी।
आँधी—(हिं. स्त्री.) मैदा चालने की चलनी।
आँच—(हिं. स्त्री.) आग की लपट, अग्नि, ताप, तेज, चोट, हानि, सङ्कट, विपत्ति, प्रम या काम का ताप; (मुहा.)—आना—हानि होना, कष्ट होना; —खाना—आँच पर रखना—दिखाना—गरम करना।
आँचना—(हिं. क्रि. स.) आँच देना, सुलगाना।
आँचर—(हिं. पुं.) अंचल।
आँचल—(हिं. पुं.) घोती या डुपट्टे का छोर, पल्ला, स्त्रियों की साड़ी का छाती पर रहनेवाला किनारा; (मुहा.)—देना—बच्चे को दूध पिलाना; —में बाँधना—सर्वदा साथ रखना, किसी बात को याद रखना; —लेना—आँचल छुकर अभिवादन करना।
आंजन—(सं. पुं.) अंजन, अंजनी के पुत्र हनुमान जी; (वि.) अंजन संबंधी।
आंजन—(हिं. पुं.) देखें 'अंजन'।
आंजना—(हिं. क्रि. स.) आँखोंमें अंजनलगाना।
आंजनेय—(सं. पुं.) हनुमान।
आँट—(हिं. स्त्री.) हथेली में तर्जनी और अँगूठे के मध्य का स्थान, दाँव, वैर, गाँठ, गूटर, पूल; (मुहा.)—पर चढ़ना—दाँव पर आना।
आँटना—(हिं. क्रि. अ.) समाना, अँटना, आना, पहुँचना।
आँट-साँट—(हिं. स्त्री.) गुप्त अभिसन्धि।
आँटी—(हिं. स्त्री.) लंबी घास इत्यादि का छोटा गूठा, लड़कों के खेलने की गुल्ली, लड़ने का एक पेंच, सूत का लच्छा, घोती की एँठन, टेंट।
आँठी—(हिं. स्त्री.) गाँठ, बीज, गुठली, दही मलाई आदि का लच्छा।

आँड—(सं. वि.) अंड या डिव से उत्पन्न, अंडज।
आँड—(हिं. पुं.) अंडकोश।
आँडी—(हिं. स्त्री.) गाँठ, सूत की प्योनी, कोल्हू के जाठ का गोला।
आँडू—(हिं. पुं.) अण्डकोशयुक्त, जो पशु बधिया न किया गया हो।
आँत—(हिं. स्त्री.) अन्न, अँतड़ी, प्राणियों के पेट में गुदा तक जानेवाली लंबी नली जिसमें से होकर मल बाहर निकलता है, लाद; (मुहा.)—सूखना—भूख से छटपटाना।
आँतर—(सं. वि.) अन्तर का, भीतरी, अंतरंग।
आँतर—(हिं. पुं.) अन्तर, दो पदार्थों के बीच का स्थान, फासला।
आँतराल—(सं. वि.) आंतरिक।
आंतरिक—(सं. वि.) अंतर्गत, भीतरी, मानसिक।
आंत्र—(सं. वि.) अंत्र-संबंधी, आँतों में उत्पन्न या रहनेवाला।
आंत्रिक—(सं. वि.) अंत्र का, अंत्र संबंधी।
आँटू—(हिं. पुं.) लोहे का कड़ा, वेड़ी, सिकड़ी।
आंदोलन—(सं. पुं.) उपद्रव, कंपन, हल-चल, प्रकंप, उद्वेग, भावावेश।
आंदोलित—(सं. वि.) आंदोलन से युक्त, कंपित।
आँधना—(हिं. क्रि. अ.) वेग से धावा करना, टूट पड़ना।
आँधर, आँधरा—(हिं. वि.) अन्धा, नेत्रहीन।
आँधारभ—(हिं. पुं.) अन्धेरखाता, मन-मानी बात।
आँधी—(हिं. स्त्री.) घूलिपूर्ण प्रचण्ड वायु, अंधड़; (वि.) आँधी के समान तीव्र।
आंध्र—(सं. पुं.) तामिल देश, आधुनिक आंध्र प्रदेश, यहाँ के निवासी।
आँवाहल्दी—(हिं. स्त्री.) देखें 'आमाहल्दी'।
आँय-बाँय—(हिं. पुं.) असम्बन्ध प्रलाप, व्यर्थ की बात, अंडबंड, अनाप-शनाप।
आँव—(हिं. पुं.) अन्न न पचने से उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का उदर-रोग।
आँवट—(हिं. पुं.) किनारा, कपड़े का छोर, बरतन का वार।
आँवड़ना—(हिं. क्रि. अ.) उमड़ना, ऊपरको उठना।
आँवड़ा—(हिं. वि.) गहन, गहरा।
आँवन—(हिं. पुं.) पहिलेके मध्यभाग में जड़ी हुई लोहे की सामी जिसमें घुरे का डंडा घूमता है।
आँवरा—(हिं. पुं.) देखें 'आँवला'।
आँवल—(हिं. स्त्री.) खेड़ी जिससे गर्म में बच्चा लपेटा रहता है।

आँवला—(हिं. पुं.) एक वृक्ष जिसके गोल फल कसैलापन लिये कुछ खट्टे होते हैं।
 आँवलासार-गंधक—(हिं. स्त्री.) स्वच्छ की हुई पारदर्शक गन्धक।
 आँवाँ—(हिं. स्त्री.) गड्ढा जिसमें कुम्हार लोग मिट्टी के पात्र पकाते हैं, आवाँ।
 आंशिक—(हिं. वि.) अंश संबंधी, हिस्से का।
 आंशुकजल—(हिं. पुं.) घूप की किरण दिखलाया हुआ जल, ताँबे के पात्र में रखा हुआ जल जो दिन भर घूप में तथा रात में चाँदनी में रख दिया जाता है और औषधि में प्रयुक्त होता है।
 आँस—(हिं. स्त्री.) पीड़ा, सुतली, डोरी, रेशा; (पुं.) आँसू।
 आँसी—(हिं. स्त्री.) मिठाई आदि जो इष्ट मित्रों के घर भेजी जाती है, वैना।
 आँसू—(हिं. पुं.) अश्रु, नेत्र से निकलने-वाला जल; (मुहा.)—गिराना या ढालना—रोना;—पीकर रह जाना—मसोसकर रह जाना;—पोंछना—आश्वासन देना; ढाड़स देना; आँसुओं से मुँह घोना—बहुत अधिक रोना;—ढाल—(पुं.) एक प्रकार का पक्षुओं का रोग जिसमें इनकी आँखों से आँसू गिरा करता है।
 आँड़—(हिं. पुं.) भाण्ड, पात्र।
 आँहीं—(हिं. अव्य.) नहीं।
 आ—(सं. उप.) जो 'ईपद् (थोड़ा), मर्यादा, अभिव्याप्ति तथा अतिक्रम अर्थ में प्रयुक्त होता है—यथा, आरक्त—थोड़ा लाल; आमरण—जीवन पर्यन्त; आकालिक—विना समय का।
 आँदा—(अ. अव्य.) आगे चलकर; (वि.) आनेवाला।
 आइ—(हिं. स्त्री.) देखें 'आयु'।
 आइना—(हिं. पुं.) देखें 'आईना'।
 आइस, आईस—(हिं. पुं.) देखें 'आयसु'।
 आई—(हिं. स्त्री.) मृत्यु, मौत, आयुष्य।
 आईन—(अ. पुं.) विधि, कानून, विधान, नियम;—ने-अकवरी—(पुं.) सम्राट् अकबर के शासन-प्रबंध का प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ।
 आउ—(हिं. पुं.) आयुष्य, जीवन।
 आउवाउ—(हिं. पुं.) निर्ययक वकवाद।
 आक—(हिं. पुं.) अर्क, मदार, अकवन।
 आकटि—(सं. अव्य.) कमर तक।
 आकवाक—(हिं. पुं.) वृथा की वकवाद, वकसक।
 आकर—(सं. पुं.) समूह, ढेर, मण्डार, उत्पत्ति-स्थान, खान, किसी द्रव्य के रहने का स्थान, तलवार चलाने की रीति।
 आकरकड़ा, आकरकहा—(सं. पुं.) अकर-

करा, एक जड़ी।
 आकरखना—(हिं. कि. स.) आकृष्ट करना।
 आकरिक—(सं. वि.) खान खोदनेवाला।
 आकरी—(सं. वि.) आकरिक।
 आकर्णन—(सं. पुं.) श्रवण, सुनाई देना।
 आकर्णित—(सं. वि.) सुना हुआ।
 आकर्ष—(सं. पुं.) वितान, खिचाव, तनाव, चौपड़ का खेल, कसौटी, फल तोड़ने की लग्गी, अँकुसी, इन्द्रिय, तीर चलाने का अभ्यास, चुंबक।
 आकर्षक—(सं. पुं.) खींचनेवाला, चुम्बक।
 आकर्षण—(सं. पुं.) किसी स्थान से किसी वस्तु का बलपूर्वक दूसरे स्थान पर खिचा जाना, खिचाव;—शक्ति—(सं. स्त्री.) भौतिक पदार्थों में वह शक्ति जिसके द्वारा वे अन्य पदार्थों को अपनी ओर खींच लेते हैं।
 आकर्षन—(हिं. पुं.) देखें 'आकर्षण'।
 आकर्षना—(हिं. क्रि. स.) अपनी ओर खींचना, आकृष्ट करना।
 आकर्षित—(सं. वि.) आकृष्ट, खिचा हुआ।
 आकलन—(सं. पुं.) आशंका, सन्देह, ग्रहण, लेना, संग्रह, संचय, गणना, अनुसन्धान, खोज, वन्धन।
 आकलित—(सं. वि.) सम्पादित, गिना हुआ, जाँचा हुआ।
 आकलीय—(सं. वि.) एकत्र करने योग्य, गणना करने योग्य।
 आकस्मिक—(सं. वि.) बिना किसी कारण के होनेवाला, अचानक होनेवाला।
 आकांक्षक—(सं. वि.) अभिलाषा करने-वाला, आकांक्षी।
 आकांक्षा—(सं. स्त्री.) इच्छा, अभिलाषा, चाह, वांछा, अभिप्राय, अपेक्षा, अनुसन्धान, योग्यता, व्याकरण में अर्थ की पूर्ति के लिये शब्द की अपेक्षा।
 आकांक्षित—(सं. वि.) ईप्सित, इच्छित, अपेक्षित, पूछा हुआ, ध्यान किया हुआ।
 आकांक्षी—(सं. वि.) इच्छुक, चाहनेवाला।
 आका—(हिं. पुं.), आकाप—(सं. पुं.) मट्ठी, पैजावा, आँवाँ।
 आकार—(सं. पुं.) स्वरूप, आकृति, चेष्टा, सुरत, डीलडौल, चिह्न, चेष्टा, 'अ' अक्षर।
 आकारित—(सं. वि.) आकृतिक।
 आकारी—(हिं. वि.) आकार बनानेवाला।
 आकारिक—(सं. वि.) असामयिक।
 आकाली—(हिं. स्त्री.) वसकुलता, पवराहट।
 आकाश—(सं. पुं.) तम, गगन, अन्नक, बहुत ऊँचा स्थान; (मुहा.)—सातल

एक करना—हलचल मचना, बड़ा उद्योग करना;—रक्षा—(सं. स्त्री.) आकाश से लगा हुआ भूमि का किनारा क्षितिज;—कुसुम या पुष्प—(सं. पुं.) आकाश में फला हुआ पुष्प, असम्मव वार्ता, अनहोनी बात—गंगा—(सं. स्त्री.) मन्दाकिनी, गगन-पथ, अनेक छोटे-छोटे तारों का मण्डल जो आकाश में उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है;—चारी—(सं. वि.) आकाश में विचरने-वाला (पक्षी, देवता, पवन आदि);—गामी—(सं. वि.) आकाश में फिरने-वाला, (पुं) वायु, देवता, पक्षी, राक्षस;—चोटी—(हिं. स्त्री.) शीर्ष-विंदु, सिर के ठीक ऊपर पड़नेवाला कल्पित विंदु;—जल—(सं. पुं.) वृष्टि का जल, मेघ का पानी, तुपार, आँस;—दीप—(सं. पुं.) देखें 'आकाशप्रदीप';—बुरी (हिं. स्त्री.),—ध्रुव—(सं. पुं.) खगोल का ध्रुव;—नदी—(सं. स्त्री.) देखें 'आकाशगंगा';—नीम—(हिं. स्त्री.) नीम पर फैलनेवाली बेल;—पुष्प—(सं. पुं.) देखें 'आकाश-कुसुम';—प्रदीप—(सं. पुं.) कार्तिक मास में प्रति-दिव ऊँचे स्थान पर जलाने का दीपक, आकासदीया;—बेल—(हिं. स्त्री.) देखें 'अमरबेल';—भाषित—(सं. पुं.) देववाणी, जो बात देवता आकाश में अदृश्य रूप में रहकर कहते हैं;—मंडल—(सं. पुं.) गगनमण्डल, खगोल;—मुखी—(सं. पुं.) शैव सम्प्रदाय के संन्यासी जो सर्वदा आकाश की ओर मुख करके तप करते हैं;—यान—(सं. पुं.) वायुयान, हवाई जहाज;—लोचन—(सं. पुं.) जिस स्थान से ग्रहों की स्थिति, गति इत्यादि देखी जाती है, मानमन्दिर;—वचन—(सं. पुं.) देखें 'आकाश-भाषित';—बल्ली—(सं. स्त्री.) आकाश-बेल, अमरबेल;—वाणी—(सं. स्त्री.) देववाणी, वह वाक्य जो देवता आकाश में अदृश्य रूप में रहकर कहते हैं; भारत का रेडियो प्रसारण विभाग;—चाय—(सं. स्त्री.) वायुमण्डल जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है;—वृत्ति—(सं. स्त्री.) सन्दिग्ध जीविका, मनुष्य की अस्थिर आय;—तलिल—(सं. पुं.) वर्षा का पानी।
 आकाशी—(हिं. स्त्री.) वह चाँदनी जो आसप आदि से बचने के लिये नानी जाती है।
 आकाशीय—(सं. वि.) आकाश-सम्बन्धी, आकाश में होनेवाला।
 आकीर्ण—(सं. वि.) व्याप्य, फैला हुआ।

आकुञ्चन-(सं. पुं.) संकोचन, संचय, मरोड़, टेढ़ापन, सिमटन।
 आकुञ्चनीय-(सं. वि.) सिकोड़ने योग्य, सिमटनेवाला।
 आकुञ्चित-(सं. वि.) सिकोड़ा हुआ, वक्र, टेढ़ा, घुंघराले (वाल)।
 आकुञ्ठन-(सं. पुं.) भोवरा होने की स्थिति, लज्जा, शर्म।
 आकुञ्ठित-(सं. वि.) कुन्द, लज्जित।
 आकुल-(सं. वि.) व्यथ, घबड़ाया हुआ, विह्वल, प्रतिकूल, उद्विग्न, व्याप्त।
 आकुलता-(सं. स्त्री.), आकुलत्व-(सं. पुं.) व्यग्रता, घबराहट।
 आकुलित-(सं. वि.) व्याकुल, घबड़ाया हुआ, क्षुब्ध, दुःखित।
 आकुलीकृत-(सं. वि.) व्याकुल किया हुआ।
 आकुलीभूत-(सं. वि.) जो स्वयं व्याकुल हो गया हो।
 आकृत-(सं. पुं.) आशय, अभिप्राय।
 आकृति-(हिं. स्त्री.) अभिप्राय, आशय।
 आकृति-(सं. स्त्री.) आकार, लक्षण, मूर्ति, रूप, बनावट, चेष्टा, व्यवहार, चाल-चलन।
 आकृष्ट-(सं. वि.) खींचा हुआ।
 आकृष्टि-(सं. स्त्री.) आकर्षण, खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण।
 आक्रन्द, आक्रन्दन-(सं. पुं.) चिल्लाहट सहित रुलाई, पुकार, ललकार, प्रवलता।
 आक्रन्दित-(सं. वि.) चिल्लाता हुआ।
 आक्रम-(सं. पुं.) शक्ति, बल, पराक्रम।
 आक्रमण-(सं. पुं.) अग्रगमन, चढ़ाई, घावा, प्रसारण, फैलाव।
 आक्रमणीय-(सं. वि.) आक्रमण करने योग्य, घावा करने योग्य।
 आक्रमित-(सं. वि.) जिस पर आक्रमण किया गया हो।
 आक्रमिता-(सं. स्त्री.) वह प्रौढ़ नायिका जो अपने नायक को सब प्रकार से वश में कर लेती है।
 आक्रांत-(सं. वि.) परामूत, हारा हुआ, धिरा हुआ, अधीन किया हुआ, विह्वल, घबड़ाया हुआ, व्याप्त, पीड़ित।
 आक्रांति-(सं. स्त्री.) विवशता।
 आक्रोड़-(सं. पुं.) क्रोड़ा-स्थान।
 आक्रोड़न-(सं. पुं.) विहार, खेल।
 आक्रोश-(सं. पुं.) शाप, कोसना, निन्दा, अपवाद, गाली।
 आक्रोशनीय-(सं. वि.) कोसने योग्य।
 आक्रोशित-(सं. वि.) शापित, कोसा हुआ।
 आक्रांत-(सं. वि.) लगा हुआ, लिपटा हुआ, आविष्टित।

आक्षिप्त-(सं. वि.) झूत या पासा सम्बन्धी।
 आक्षिप्त-(सं. वि.) फेंका या उछाला हुआ, उमाड़ा हुआ, निन्दा किया हुआ, अपमानित।
 आक्षेप-(सं. पुं.) फेंकना, खींचना, गिराना, अपमान, अपवाद, भर्त्सना, गाली, झिड़की, ताना।
 आक्षेपक-(सं. वि.) आकर्षक, खींचने-वाला, निन्दा करनेवाला।
 आक्षेपण-(सं. पुं.) आक्षेप करना।
 आक्षेपी-(सं. वि.) आकर्षण करनेवाला, खींचनेवाला।
 आक्षोट-(सं. पुं.) अखरोट का वृक्ष।
 आक्षुत्ताड-(अं. पुं.) आक्सिजन और घातु के मेल से बना पदार्थ।
 आक्सिजन-(अं. पुं.) जीवन के लिए आवश्यक गैस।
 अक्षत-(हिं. पुं.) अक्षत जो देवताओं पर चढ़ाने के उपयोग में आता है, विवाहादि शुभ कार्य के समय परिजनों को दिया जाने का अन्न।
 आखन-(हिं. अव्य.) क्षण-क्षण, बार-बार।
 आखना-(हिं. क्रि. स.) वर्णन करना, कहना, चाहना, देखना, ताकना।
 आखर-(हिं. पुं.) अक्षर।
 आखा-(हिं. पुं.) चालने का पात्र, महीन कपड़े से मढ़ी हुई मैदा चालने की चलनी; (वि.) समग्र, समूचा।
 आखिर-(फा. पुं.) अंत, समाप्ति; (वि.) पिछला, अंत का।
 आखिरकार-(फा. अव्य.) अंत में।
 आखिरी-(अ. वि.) अंत का, अन्तिम।
 आखु-(सं. पुं.) मूपक, चूहा, सुअर, चोर, देवदार का वृक्ष।
 आखेट-(सं. पुं.) अहेर, मृगया।
 आखेटक-(सं. पुं.) मृगया; (वि.) अहेर खेलनेवाला।
 आखेटिक-(सं. पुं.) आखेटक कुत्ता।
 आखेटी-(सं. वि.) अहेरी, शिकारी।
 आखोट-(सं. पुं.) अखरोट का वृक्ष।
 आख्या-(सं. स्त्री.) व्याख्या, नाम, संज्ञा, रुढ़िवाचक शब्द।
 आख्यात-(सं. वि.) कथित, कहा हुआ, पढ़ा हुआ, प्रसिद्ध, प्रकाशित।
 आख्याता-(सं. पुं.) बोलनेवाला, उपदेशक।
 आख्याति-(सं. स्त्री.) कीर्ति, यश, कथन, नामकरण।
 आख्यान-(सं. पुं.) कथन, वर्णन, बोली, कथा, किस्सा, कहानी, उपन्यास विशेष जिसमें आख्याता स्वयं अपने मुख से सब बातें कहता है।

आख्यानक-(सं. पुं.) कथा, छोटा किस्सा।
 आख्यानकी-(सं. स्त्री.) दण्डक वृत्त का एक भेद।
 आख्यायक-(सं. वि.) कहनेवाला; (पुं.) हूता।
 आख्यायिका-(सं. स्त्री.) उपन्यास, गल्प, सच्ची कहानी।
 आख्येय-(सं. वि.) वर्णन करने योग्य।
 आगंतु, आगंतुक-(सं. पुं.) अतिथि, पाहुन; (वि.) आनेवाला, दैवयोग से प्राप्त।
 आग-(हिं. स्त्री.) अग्नि, दाह, जलन, गरमी, कामाग्नि, वात्सल्य प्रेम, ईर्ष्या, ईर्ष का अग्रभाग, हल का डंडा; (मुहा.)-का पुतला-क्रोधी; -देना-अग्नि-दाह करना; -पर पानी डालना-क्रुद्ध को शांत करना; -पर लोटना-तड़पना, बेचन होना; -पानी का बैर-सहज शत्रुता; -बबूला होना-क्रोध से मुख लाल हो जाना; -बरसना-बहुत गरमी पड़ना; -बरसाना-लड़ाई में गोलों की वर्षा करना; -बोना-झगड़ा-वखेड़ा मचाना; -भड़काना-हलचल मचाना; -में कूदना-जान-बूझकर महा-विपत्ति मोल लेना; -में घी छोड़ना या डालना-क्रोध भड़काना; -लगना-किसी पदार्थ का जलना, अति क्रुद्ध होना, मँहगी पड़ना; -लगाकर तमाशा देखना-झगड़ा खड़ा करके उसमें आनंद लेना; -लगाना-उद्वेग बढ़ाना, क्रोध उत्पन्न करना, भड़काना; -से पानी होना-क्रोध शांत होना; -होना-परितप्त होना, अति क्रुद्ध होना; पानी में आग लगाना-असंभव बात करना।
 आगड़ा-(हिं. पुं.) मूरझाई हुई बाल जिसके दाने सूख गये हों।
 आगत-(सं. वि.) उपस्थित, आया हुआ, रहनेवाला, हुआ, प्राप्त; (पुं.) आगमन।
 आगतपतिका-(सं. स्त्री.) वह नायिका जिसका पति परदेश से वापस आया हो।
 आगत-स्वागत-(सं. पुं.) आदर-सत्कार।
 आगम-(सं. पुं.) आगमन, आय, प्राप्ति, उत्पत्ति, चार प्रमाणों में से एक, उपस्थिति, पहुँच, योग, जोड़, मार्ग, समागम, व्याकरण के शब्द-साधन में जो वर्ण बाहर से लाया जाय, वेद, शास्त्र, नीतिशास्त्र, नदी का मुहाना, होनहार, भविष्य; (मुहा.)-करना-प्रबंध या इंतजाम करना; -जानना-आनेवाली बातें जान लेना; -ब्रौंधना-आनेवाली बात का निश्चय करना।
 आगमजानी-(हिं. वि.) आगम या भविष्य जाननेवाला।

आगमज्ञानी- (सं.वि.) होनहार को जानने-वाला, आगमजानी ।
 आगमन- (सं. पुं.) अवाई, प्राप्ति ।
 आगमवक्ता- (सं. पुं.) भविष्य वृतलाने-वाला ज्योतिषी ।
 आगमवाणी- (सं. स्त्री.) भविष्यवाणी ।
 आगमविद्या- (सं. स्त्री.) वेदविद्या ।
 आगम-सौची- (सं. वि.) दूरदक्षिणा की बातें सोचनेवाला ।
 आगमिक- (सं. वि.) आया हुआ, आ पहुँचनेवाला, तन्त्र जाननेवाला ।
 आगमित- (सं.वि.) पढ़ा हुआ, समझा हुआ ।
 आगमी- (सं. वि.) भविष्य-वक्ता, ज्योतिषी ।
 आगर- (हिं. पुं.) आकर, खान, ढेर, समूह, कोप, निधि, अर्गला, व्यौंड़ा, नमक बनाने का गड्ढा, घर, छप्पर; (वि.) श्रेष्ठ, कुशल, बढ़िया, उत्तम, चतुर, दक्ष ।
 आगरी- (हिं. पुं.) नमक बनानेवाला, लोनीया ।
 अगल- (हिं. पुं.) अर्गल, व्यौंड़ा; (अव्य.) आगे की ओर, सामने; (वि.) अगला ।
 अगला- (हिं. वि.) देखें 'अगल' ।
 अगलित- (सं. वि.) मुरझाया हुआ ।
 अगवन- (हिं. पुं.) आगमन, आना ।
 अगस्त्य- (सं. वि.) अगस्त्य ऋषि का; (पुं.) अगस्त ऋषि के वंशज ।
 आगा- (हिं. पुं.) अग्रभाग, अगला हिस्सा, वक्षस्थल, छाती, ललाट, मुख, लिंग, वस्त्र (कुरते आदि का) अगला भाग, नाव का अगला भाग, घर के सामने की भूमि, वस्त्र का पल्ला जो आगे की ओर रहता है, परिणाम, सेना का अगला भाग, आगे आनेवाला मनुष्य, अफगानिस्तान का रहनेवाला, सरदार, मालिक; (मुहा.)-काटना-किसी अप-शकुन-सूचक प्राणी का यात्री के रास्ते को आर-पार कर जाना; -भारी होना-गर्भवती होना; -रोकना-हमला रोकना, किसी बड़े काम को सँभालना, वाधक होना ।
 आगान- (हिं. पुं.) वर्णन, वृत्तान्त ।
 आगा-पोछा- (हिं. पुं.) सोच-विचार, द्विविधा, परिणाम, हिचक, दारौर का अगला और पिछला भाग; (मुहा.)-करना-टालमटोल करना ।
 आगानि, आगानी- (सं. वि.) आगे जानेवाला, भावी ।
 आगार- (सं. पुं.) घर, मकान, स्थान, कोप, खजाना ।

आगि- (हिं. स्त्री.) अग्नि, आग ।
 आगिल- (हिं. वि.) अगला, आगे होने-वाला, होनहार ।
 आगी- (हिं. स्त्री.) अग्नि, आग ।
 आगू- (हिं. अव्य.) आगे, आगे की ओर ।
 आगे- (हिं. अव्य.) अग्र भाग में, और दूर पर, बढ़कर, सम्मुख, भविष्य में, बाद, पीछे, जीवित अवस्था में, अनन्तर, पूर्व, पहिले, अधिक, ऋद्ध में, गोद में; (मुहा.)-आगे-सामने; -आना-सम्मुख होना, घटित होना; -करना-उपस्थित करना, नेता बनाना; -को,-जाकर-भविष्य में; -निकलना-बढ़ जाना; -पीछे-एक के बाद दूसरा; -से-सामने से, भविष्य में; -होना-अग्रतर होना, मुखिया बनना ।
 आगौन- (हिं. पुं.) देखें 'आगमन' ।
 आगिनक- (सं. वि.) अग्नि सम्बन्धी ।
 आग्नीध्र- (सं. पुं.) यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करनेवाला, पुरोहित ।
 आग्नेय- (सं. वि.) अग्नि देवता संबन्धी, अग्नि विषयक, अग्नि से निकाला हुआ, आग लगने से शीघ्र जलनेवाला, भूख बढ़ानेवाला, अग्नि के समान; (पुं.) सोना, लोहा, कृत्तिका नक्षत्र, दीपन औषधि, ज्वालामुखी पर्वत, आग लगने से चलनेवाले शस्त्र, तोप, बन्दूक इ०, अग्नि के पुत्र कार्तिकेय, प्रतिपदा तिथि, भारतवर्ष के दक्षिण के एक प्राचीन देश का नाम ।
 आग्नेयास्त्र- (सं. पुं.) प्राचीन काल का अस्त्र विशेष जिसके प्रयोग से अग्नि की वृष्टि होती थी ।
 आगनी- (सं. स्त्री.) पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा ।
 आग्रस्त- (सं. वि.) वेवा हुआ, छेदा हुआ ।
 आग्रह- (सं. पुं.) विनय, अनुरोध, आसक्ति, अनुग्रह, कृपा, तत्परता, आवेश, साहन, हठ ।
 आग्रहायण- (सं. पुं.) मार्गशीर्ष मास, अग्रहन का महीना, मृगशिरा नक्षत्र ।
 आग्रहायणी- (सं. स्त्री.) अग्रहन की पूर्णिमा ।
 आग्रही- (सं. वि.) आग्रह करनेवाला, हठी ।
 आव- (हिं. पुं.) मूल्य, दाम ।
 आवर्ष- (सं. पुं.) मर्दन, मत्वन ।
 आवर्षणी- (सं. स्त्री.) बालों की कूची ।
 आवर्षित- (सं. वि.) मारजित, रगड़ा हुआ ।
 आघात- (सं. पुं) वच, ठोकर, परता, क्षत, प्रहार, चोट, मारपीट, आक्रमण, अनार्य, वयस्त्वान ।

आघातन- (सं. पुं.) आघात करने की क्रिया ।
 आघी- (हिं. स्त्री.) व्याज के बदले में दिया जानेवाला अन्न ।
 आघूर्ण, आघूर्णित- (सं. वि.) चलित, घूमता हुआ, भ्रान्त, चक्कर साता हुआ ।
 आघ्राण- (सं. वि.) सूँघा हुआ; (पुं.) सूँघना, तृप्ति ।
 आघ्रात- (सं. वि.) सूँघा हुआ ।
 आघ्रेय- (सं. वि.) घ्राण करने (सूँघने) योग्य जो सूँघा जाय ।
 आचमन- (सं. पुं.) भोजन के बाद मुख धोना, पूजा के पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर मन्त्र पढ़कर पीना ।
 आचमनी- (हिं. स्त्री.) छोटे चम्मच के आकार का पात्र जिससे आचमन किया जाता है ।
 आचमनीय- (सं. वि.) आचमन करने योग्य ।
 आचय- (सं. पुं.) समूह, ढेर, संचय ।
 आचरज- (हिं. पुं.) आश्चर्य, अचरज ।
 आचरण- (सं. पुं.) आचार, चाल-चलन, व्यवहार, चिह्न, लक्षण, आचार के नियम ।
 आचरणीय- (सं. वि.) अनुष्ठेय, व्यवहार करने योग्य ।
 आचरन- (हिं. पुं.) देखें 'आचरण' ।
 आचरना- (हिं. क्रि. अ.) व्यवहार करना, आचरण करना ।
 आचरित- (सं. वि.) अनुष्ठित, व्यवहार किया हुआ ।
 आचार- (सं. पुं.) नैतिक आचरण, अनुष्ठान, नियम, चाल-चलन, पद्धति, चरित्र, सदाचार, शुद्धि ।
 आचार-तंत्र, आचारशास्त्र- (सं. पुं) नैतिक आचरण का ज्ञान, शास्त्र आदि ।
 आचारपतित- (सं. वि.) आचारभ्रष्ट, अनैतिक ।
 आचारभ्रष्ट- (सं. वि.) देखें 'आचारपतित' ।
 आचारवान्- (सं. वि.) शुद्ध आचरण का, पवित्रता से रहनेवाला ।
 आचार-विचार- (सं. पुं.) शुद्ध आचरण, पवित्रता ।
 आचारविस्त- (सं. वि.) पदवि के प्रतिशूल ।
 आचारहीन- (सं. वि.) देखें 'आचारभ्रष्ट' ।
 साचारी- (सं. वि.) आचारवान्; (पुं.) रामानुज मन्त्रदाय का वैष्णव ।
 साचार्य- (सं. पुं.) गायत्री मन्त्र का उच्चारण देनेवाला, वेद, पढ़ानेवाला, यज्ञादि के क्रम का उद्देशक, अध्यापक, गुरु, पुरोहित, वेद का नाप्यार ।
 साचार्यता- (सं. स्त्री.) आचार्य या गुरु का पद या उपाधि ।

आचार्यत्व—(सं. पुं.) आचार्यता ।
 अचिन्त्य—(हि. वि.) अचिन्त्य, सोचने योग्य ।
 आच्छद—(सं. पुं.) ढाँपने का वस्त्र ।
 आच्छन्न—(सं. वि.) ढँपा हुआ, छिपा हुआ ।
 आच्छादक—(सं. वि.) ढाँपनेवाला, छिपानेवाला; (पुं.) ढक्कन ।
 आच्छादन—(सं. पुं.) आवरण, ढपना, परदा, छिपाव, वस्त्र, कपड़ा, ओहार, लबादा, झूल ।
 आच्छादित—(सं. वि.) आवृत, ढँपा हुआ, गुप्त, आच्छन्न ।
 आच्छिन्न—(सं. वि.) छीना हुआ, कटा हुआ ।
 आच्छेद, आच्छेदन—(सं. पुं.) काट-छाँट, कटाई ।
 आच्छेदन—(सं. पुं.) चुटकी बजाना ।
 आद्यत—(हि. पुं.) देखें 'अक्षत'; (हि. अव्य.) रहते या होते हुए, सामने, अति-रिक्त, सिवाय ।
 आद्यना—(हि. क्रि. अ.) रहना, ठहरना, होना, विद्यमान होना ।
 आद्यी—(हि. वि. स्त्री.) अच्छी; (वि.) खानेवाला ।
 आद्य—(हि. अव्य.) अच्छी तरह से ।
 आद्येप—(हि. पुं.) देखें 'आक्षेप' ।
 आद्यो—(हि. वि.) देखें 'अच्छा' ।
 आज—(हि. अव्य.) अद्य, वर्तमान दिन में, इन दिनों, इस समय; (मुहा.) -काल—(हि. अव्य.) इन दिनों, सम्प्रति, इस समय, वर्तमान काल में; -कल करना या बताना—डालमटोल करना, होला-हवाली करना; -कल का-धायुनिक, इस समय का; -कल में-बहुत जल्दी, दो-एक दिन में; -कल लगना—मीत करीब होना; -तक—इस समय या घड़ी तक ।
 आज-काल—(हि. अव्य.) देखें 'आजकल' ।
 आजगव—(सं. पुं.) शिव का धनुष ।
 आजन्म—(सं. अव्य.) जन्म से ।
 आजमाइश—(फा. स्त्री.) जाँच, परीक्षा ।
 आजमाइशी—(फा. वि.) आजमाइश का ।
 आजमाना—(हि. क्रि. सं.) आजमाइश करना ।
 आजमाद—(फा. वि.) स्वतंत्र, स्वाधीन ।
 आजमादी—(फा. स्त्री.) स्वतंत्रता, स्वाधीनता ।
 आज्ञा—(हि. पुं.) पितामह, पिता का पिता, दादा ।
 आज्ञानु—(सं. अव्य.) जाँघ या घुटने तक; -चाह—(वि.) घुटने तक लंबे हाथवाला ।
 आजि—(हि. पुं.) कुट, लड़ाई ।
 आजिब—(सं. पुं.) जीवन का उपाय, रोजी, व्यवसाय ।
 आजिबान—(सं. पुं.) वृत्ति का उपाय;

(अव्य.) जीवन पर्यन्त ।
 आजीविका—(सं. स्त्री.) जीवन का उपाय ।
 आजु—(हि. अव्य.) देखें 'आज' ।
 आज्ञप्त—(सं. वि.) आदिष्ट, आज्ञा दिया हुआ ।
 आज्ञप्ति—(सं. स्त्री.) आदेश, आज्ञा ।
 आज्ञा—(सं. स्त्री.) आदेश, अनुमति ।
 आज्ञाकारिता—(सं. स्त्री.) आज्ञा का पालन ।
 आज्ञाकारी—(सं. वि.) आज्ञा माननेवाला, आज्ञापालक सेवक ।
 आज्ञाचक्र—(सं. पुं.) तन्त्रानुसार सुषुम्ना नाड़ी के मध्यगत पद्माकार चक्र ।
 आज्ञानुगामी—(सं. वि.) आज्ञानुसारी ।
 आज्ञानुसारी—(सं. वि.) आज्ञा के अनुसार चलनेवाला ।
 आज्ञापक, आज्ञाता—(सं. वि.) आज्ञा देनेवाला, हुकम देनेवाला; (पुं.) स्वामी, प्रभु ।
 आज्ञापत्र—(सं. पुं.) आदेशपत्र ।
 आज्ञापन—(सं. पुं.) आदेश, इत्तला ।
 आज्ञापालक—(सं. वि.) आज्ञा पालन करनेवाला, आज्ञाकारी; (पुं.) दास ।
 आज्ञापित—(सं. वि.) आदेश दिया हुआ ।
 आज्ञाभंग—(सं. पुं.) आज्ञा न मानना ।
 आज्ञाबह—(सं. वि.) आज्ञानुसार काम करनेवाला ।
 आज्य—(सं. पुं.) घृत, घी, हवि; -पात्र—(पुं.) घी रखने का पात्र ।
 आटना—(हि. क्रि. सं.) मूँदना, छिपाना, तोपना ।
 आटविक—(सं. वि.) जंगल में रहनेवाला, लकड़हारा ।
 आटा—(हि. पुं.) अन्न का चूर्ण, पिसान, वुकनी; (मुहा.) -कर देना—चूर्ण करना; -नीला होना—गरीबी में खर्च अधिक सिर पर आ पड़ना; आटे के साथ घुन पीसना—बड़े के साथ छोटे का भी नुकसान होना; आटे-दाल का भाव मालूम होना—कठिनाई या विकटता का सही-सही ज्ञान होना; आटे-दाल को चिन्ता—आजीविका के विषय में चिन्ता ।
 आटी—(हि. स्त्री.) रोक, अटक, पच्चड़, टेक ।
 आटोप—(सं. पुं.) दर्प, घमंड, आडंबर, तड़क-भड़क, विस्तार, फैलाव, मूजन ।
 आठ—(हि. वि.) अष्ट, चार की दूनी संख्या, ८; (मुहा.) आठ आँसू रोना—अति विलाप करना; आठों गाँठ कुम्भेद—सब गुणों से युक्त; आठों पहर—दिन-रात ।
 आठक—(हि. वि.) आठ के बराबर ।
 आठवाँ—(हि. वि.) अष्टम ।
 आडंबर—(सं. पुं.) हर्ष, दर्प, गम्भीर शब्द,

तुरही का शब्द, युद्ध की घोषणा ललकार, आरम्भ, युद्ध का शब्द, मेघ, हाथी की गर्जना, चिंगघाड़, आच्छादन, तम्बू, वरौनी, दिखावट, ठाट-वाट ।
 आडंबरौ—(सं. वि.) अभिमानी, घमंडी, ठाटवाट रखनेवाला ।
 आड़—(हि. स्त्री.) परदा, रोक, रक्षा, अड़ान, धूनी, करछुल, ईट या पत्थर का टुकड़ा, विच्छू का डंक, स्त्रियों के मस्तक पर लगाने की लंबी टिकुली, स्त्रियों का एक आमूषण ।
 आड़गीर—(हि. पुं.) खेत के किनारे पर उगनेवाली घास ।
 आड़न—(हि. स्त्री.) ढाल ।
 आड़ना—(हि. क्रि. सं.) रोकना, छँकना, बाँधना, अटकाना ।
 आड़बंद—(हि. पुं.) जाँघिये पर बाँधने की पट्टी ।
 आड़ो—(हि. पुं.) धारीदार वस्त्र, गोटी लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा, लट्टा; (वि.) तिरछा; (मुहा.) आड़े आना—प्रतिबन्ध करना, हकावट डालना; आड़े हाथों लेना—व्यंग्य बोल कर लज्जित करना ।
 आडिटर—(अं. पुं.) कंपनियों आदि का हिसाब-किताब जाँचनेवाला ।
 आड़ी—(हि. स्त्री.) एक ताल विशेष, चमारों की छुच्छी, ओर; (वि.) सहायक, तिरछी ।
 आड़ु—(हि. पुं.) एक प्रकार का खट मिट्टा फल, सतालू ।
 आड़ु—(हि. पुं.) आडक, चार सेर की तौल; (स्त्री.) आड़, परदा, आश्रय, अन्तर, वीच; (वि.) भरा हुआ ।
 आड़क—(हि. पुं.) चार सेर की तौल, आड़, अरहर ।
 आड़की—(सं. स्त्री.) अरहर की दाल, सुगन्धित मिट्टी ।
 आड़त—(हि. स्त्री.) किसी व्यापारी का माल विक्री कराने का व्यापार, जो धन किसी के माल की विक्री करा देने पर मिलता है ।
 आड़तवार, आड़तिया—(हि. पुं.) देखें 'अदृतिषा' ।
 आड़ती—(हि. वि.) आड़त-सम्बन्धी ।
 आड़्य—(सं. वि.) युक्त, विशिष्ट, धनी, सम्पन्न, भरा-भरा ।
 आड़्यता—(सं. स्त्री.) विभव, ऐश्वर्य ।
 आणक—(सं. पुं.) एक रुपये का सोलहवाँ अंश, आना ।
 आतंक—(सं. पुं.) रोग, सन्ताप, काष्ट

सन्देश, मय, ज्वर, निक्षेप, वेग, उपद्रव ।
 आत-(हिं. पुं.) शरीरफे का फल ।
 आततायिता-(सं. स्त्री.) वध, चोरी ।
 आततायी-(सं. वि., पुं.) जान मारने को उद्यत, घर में आग लगानेवाला, विप देनेवाला, चोरी करनेवाला, स्त्री-हरण करनेवाला ।
 आतप-(सं. पुं.) धूप, धाम, उष्णता, गरमी ।
 आतपत्र-(सं. पुं.) धूप से वचाने का छाता ।
 आतप-शुष्क-(सं. वि.) धूप में सुखाया हुआ ।
 आतपी-(सं. वि.) सूर्य या धाम संबंधी ।
 आत्म-(हिं. वि.) देखें 'आत्म' ।
 आत्मा-(हिं. पुं.) देखें 'आत्मा' ।
 आत्मापि-(सं. पुं.) एक असुर ।
 आत्मापी-(सं. पुं.) देखें 'आत्मापि' ।
 आतियथ-(सं. पुं.) अतिथि की सेवा, जिसके यहाँ अतिथि आवे ।
 आतियथ्य-(सं. पुं.) अतिथि की परिचर्या, पहनाई; -सत्कार-(पुं.) अतिथि की खातिरदारी ।
 आतिशय्य-(सं. पुं.) आधिक्य, प्राधान्य, बहुतायत ।
 आतोपाती-(हिं. स्त्री.) लड़कों का एक खेल ।
 आतुर-(सं. वि.) आहत, पीड़ित, व्यग्र, व्याकुल, रोगी, अधीर, दुःखी, उत्सुक ।
 आतुरता-(सं. स्त्री.) पीड़ा, रोग, व्यग्रता, व्याकुलता, शीघ्रता, जल्दी ।
 आतुरताई-(हिं. स्त्री.) आतुरता ।
 आतुर-संन्यास-(सं. पुं.) वह संन्यास जो मरने के कुछ दिन पहले लिया जाता है ।
 आतुराना-(हिं. क्रि. अ.) उत्सुक होना ।
 आतुरी-(हिं. स्त्री.) आतुरता, व्यग्रता, घबड़ाहट, उतावलापन ।
 आतुर्य-(सं. पुं.) आतुरता, व्यग्रता, घबड़ाहट ।
 आत्त-(सं. वि.) गृहीत, स्वीकृत ।
 आत्त-लक्ष्मी-(सं. वि.) जिसने धन गँवा दिया हो ।
 आत्म-(सं. वि.) अपना, निजी, स्वकीय ।
 आत्मरु-(सं. वि.) प्रकृति से सम्बन्ध रखनेवाला, (समस्त पदों में) ; यथा-विषयात्मक, पंचात्मक इ० ।
 आत्म-कथा-(सं. स्त्री.) स्वलिखित जीवनी ।
 आत्म-कल्याण-(सं. पुं.) अपना ही भला ।
 आत्म-कार्य-(सं. पुं.) निजी काम ।
 आत्म-कृत-(सं. वि.) स्वयं अपने हाथ से किया हुआ ।
 आत्मगत-(सं. वि., अव्य.) स्वगत, आप ही आप ।

आत्मगुप्त-(सं. वि.) अपनी शक्ति द्वारा रक्षित ।
 आत्मगौरव-(सं. पुं.) स्वकीय प्रभाव, अपने मान का विशेष ध्यान ।
 आत्म-प्राही-(सं. वि.) स्वार्थी, लालची ।
 आत्मघात-(सं. पुं.) आत्महत्या, स्वयं विप खाकर या फाँसी लगाकर प्राणत्यागकरना ।
 आत्मघातक, आत्म-घाती-(सं. वि.) अपने हाथों से अपने को मार डालनेवाला, आत्महत्या करनेवाला ।
 आत्म-चरित, -चरित्र-(सं. पुं.) देखें 'आत्म-कथा' ।
 आत्मज-(सं. पुं.) पुत्र, बेटा, कामदेव ।
 आत्मजा-(सं. स्त्री.) कन्या, बेटो, पुत्री ।
 आत्मजात-(सं. वि.) देखें 'आत्मज' ।
 आत्मज्ञ-(सं. पुं.) ब्रह्मज्ञ, सिद्ध, अपने स्वरूप को मली भाँति जाननेवाला ।
 आत्मज्ञान-(सं. पुं.) आत्मा का यथार्थ रूप में ज्ञान, सच्चा ज्ञान ।
 आत्मज्ञानी-(सं. पुं.) देखें 'आत्मज्ञ' ।
 आत्मतत्व-(सं. पुं.) आत्मा का यथार्थ स्वरूप, वेदांत ।
 आत्मतत्वज्ञ-(सं. पुं.) वेदान्ती ।
 आत्म-तुष्टि-(सं. वि.) आत्मज्ञान द्वारा तुष्टि पानेवाला; (स्त्री.) आत्मा का सन्तोष, आत्मिक संतुष्टि ।
 आत्म-त्याग-(सं. पुं.) स्वार्थत्याग, दूसरे की भलाई के लिये अपना स्वार्थ छोड़ देना ।
 आत्म-त्यागी-(सं. वि.) स्वार्थत्यागी, दूसरे के लिये अपना स्वार्थ त्यागनेवाला ।
 आत्म-दर्शन-(सं. पुं.) देखें 'आत्म-ज्ञान' ।
 आत्म-दान-(सं. पुं.) आत्मा का दान, आत्म-त्याग ।
 आत्मद्रोही-(सं. वि.) वक्र प्रकृति का, चिड़चिड़ा, अपनी बुराई करनेवाला ।
 आत्मनिदा-(सं. स्त्री.) स्वकीय तिरस्कार ।
 आत्मनिवेदन-(सं. पुं.) आत्मसमर्पण, अपना सर्वस्व देवता को अर्पण कर देना ।
 आत्म-निष्ठ-(सं. वि.) ब्रह्मनिष्ठ, मोक्ष चाहनेवाला ।
 आत्म-निरीक्षण-(सं. वि.) अपनी सत्ता, भावना, वृत्ति आदि जानना ।
 आत्म-परित्याग-(सं. वि.) देखें 'आत्म-निवेदन', आत्म-दान ।
 आत्म-प्रबोध-(सं. पुं.) आत्मा का ज्ञान ।
 आत्म-प्रभव-(सं. पुं.) तनुज, पुत्र, बेटा, कामदेव ।
 आत्म-प्रशंसा-(सं. स्त्री.) अपनी प्रशंसा स्वयं करना ।
 आत्म-यंघु-(सं. पुं.) समेरा, मीनेरा तथा

फुफेरा माई ।
 आत्म-बुद्धि-(सं. स्त्री.) स्वीय ज्ञान, आत्मा के विषय में ज्ञान ।
 आत्म-बोध-(सं. पुं.) स्वीय ज्ञान, आत्म-प्रबोध ।
 आत्मभव-(सं. वि.) स्वयं उत्पन्न, अपने आप निकला हुआ ।
 आत्मभू-(सं. पुं.) अपने शरीर या आत्मा से उत्पन्न, आप से आप उत्पन्न; (पुं.) पुत्र, बेटा, कामदेव, ब्रह्मा, शिव, विष्णु ।
 आत्मयोगि-(सं. पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कामदेव ।
 आत्मरक्षक-(सं. वि.) अपनी रक्षा करनेवाला ।
 आत्मरक्षण-(सं. पुं.) अपनी रक्षा ।
 आत्मरक्षा-(सं. स्त्री.) अपनी रक्षा या बचाव ।
 आत्मरत-(सं. वि.) आत्मा से प्रेम रखनेवाला ।
 आत्म-रति-(सं. स्त्री.) आत्मा का आनन्द, ब्रह्मज्ञान ।
 आत्म-बंधक-(सं. वि.) अपने ही को घोखा देनेवाला, कृपण ।
 आत्म-बंधना-(सं. स्त्री.) अपने आपको घोखा देना ।
 आत्मवत्-(सं. अव्य.) अपनी तरह ।
 आत्मवध-(सं. पुं.) देखें 'आत्मघात' ।
 आत्मवश-(सं. वि.) स्वाधीन, जितेन्द्रिय ।
 आत्मवाद-(सं. पुं.) आध्यात्मिकता ।
 आत्म-विक्रय-(सं. पुं.) स्वदेह-विक्रय, किसी के हाथ अपने शरीर को बेच देना ।
 आत्मविक्रयी, आत्मविक्रेता-(सं. पुं.) अपने आपको बेचकर दास बननेवाला ।
 आत्म-विज्ञान-(सं. पुं.) योगान्यास द्वारा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान ।
 आत्म-विद्या-(सं. स्त्री.) ब्रह्म-विद्या, योगशास्त्र, वह विद्या जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो ।
 आत्म-विस्मृति-(सं. स्त्री.) अपने आप को भूल जाना, अपना ध्यान न रखना ।
 आत्म-वृत्तांत-(सं. पुं.) निजी उचारण, स्वीय (अपनी) कथा ।
 आत्म-वृत्ति-(सं. स्त्री.) अपने जीवन का उपाय ।
 आत्मशुद्धि-(सं. स्त्री.) वेदशुद्धि, चिन्मूर्ति ।
 आत्म-श्लाघा-(सं. स्त्री.) अपने गुण का प्रशंसा, स्वकीय प्रशंसा, अपने मुँह में अपना गुण धराने करना ।
 आत्मश्लाघी-(सं. वि.) अपने मुँह में अपनी प्रशंसा करनेवाला ।

आत्मसंभव—(सं. पुं.) हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, परमात्मा ।
 आत्म-संभवा—(सं. स्त्री.) आत्म-समुद्भवा ।
 आत्म-संयम—(सं. पुं.) अपनी वित्तवृत्ति को वश में करना ।
 आत्मसमुद्भव—(सं. पुं.) पुत्र, वेदा, काम-देव, विष्णु, ब्रह्मा ।
 आत्मसमुद्भवा—(सं. स्त्री.) आदिशक्ति, कन्या, पुत्री, बुद्धि ।
 आत्मसात्—(सं. अच्य.) सब प्रकार से अपने अधीन ।
 आत्मसिद्ध—(सं. वि.) अपने आप बना हुआ ।
 आत्मसिद्धि—(सं. स्त्री.) मोक्ष, निर्वाण ।
 आत्म-स्तुति—(सं. स्त्री.) स्वकीय प्रशंसा, आत्मदलाया ।
 आत्म-हत्या—(सं. स्त्री.) आत्मघात, स्ववध ।
 आत्म-हिंसा—(सं. स्त्री.) आत्महत्या ।
 आत्म-हित—(सं. वि.) अपने को लाभ देनेवाला; (पुं.) अपना हित ।
 आत्मा (सं. पुं.) जीवात्मा, चित्त, चैतन्य, मन, स्वभाव, बुद्धि, ब्रह्म, हृदय, अंतःकरण, घृति, सूर्य, अग्नि, वायु, जीव, घर्म, पुत्र, वेदा ।
 आत्मदिष्ट—(सं. वि.) अपने आप उपदेश पाया हुआ ।
 आत्माधीन—(सं. वि.) स्वाधीन, स्वतंत्र ।
 आत्मानन्द—(सं. पुं.) आत्मा का आनन्द, आत्मा में लीन होने का आनन्द ।
 आत्मानुहप—(सं. वि.) अपने तुल्य ।
 आत्माभिमान—(सं. पुं.) स्वकीय अहंकार, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान ।
 आत्मार्पण—(सं. पुं.) आत्मा का उत्सर्ग या बलिदान करना ।
 आत्माभिमानो—(सं. वि.) अपने अभिमान का ध्यान रखनेवाला ।
 आत्माराम—(सं. पुं.) वह योगी जो सम्पूर्ण विद्व को आत्मरूप समझता है, ब्रह्म, तोंते के लिये प्रयुक्त प्रेमका नाम ।
 आत्मावलंबी—(सं. वि.) अपने सहारे सब काम करनेवाला ।
 आत्मिक—(सं. वि.) आत्मा से सम्बन्ध रखनेवाला, स्वकीय, अपना, मानसिक ।
 आत्मीय—(सं. वि.) आत्मा-सम्बन्धी, निजी, अपना, स्वकीय, दैवी; (पुं.) गन्धर्वी, रिश्तेदार ।
 आत्मोक्ता—(सं. स्त्री.) आत्म-संबंध, मित्रता, अपना काम रिरता ।
 आत्मोत्कर्ष—(सं. पुं.) आत्मोन्नति ।
 आत्मोत्सर्ग—(सं. पुं.) स्वार्थ का परि-त्याग, दूसरे के हित के लिये अपना

स्वार्थ त्याग देना ।
 आत्मोद्धार—(सं. पुं.) आत्मा का उद्धार, मुक्ति, सांसारिक विषयों का त्याग तथा पारमार्थिक पदार्थों का ग्रहण ।
 आत्मोद्भव—(सं. पुं.) पुत्र, वेदा, कामदेव ।
 आत्मोद्भवा—(सं. स्त्री.) कन्या, वेदी, बुद्धि ।
 आत्मोन्नति—(सं. स्त्री.) स्वकीय उन्नति ।
 आत्मोपम—(सं. वि.) अपने सदृश ।
 आत्म्य—(सं. वि.) आत्मा सम्बन्धी ।
 आत्यंतिक—(सं. वि.) अतिशय, बहुत ज्यादा, प्रधान ।
 आत्रय—(सं. पुं.) अत्रि के पुत्र, आत्रेयी नदी के तटपर बसा हुआ देश, शिव, शरीर के रस, धातु; (वि.) अत्रि सम्बन्धी, अत्रि गोत्र का ।
 आत्रेयी—(सं. स्त्री.) अत्रिवंश की स्त्री ।
 आथना—(हिं. क्रि. अ.) होना, रहना ।
 आथर्वण—(सं. पुं.) अथर्व-वेद जाननेवाला ब्राह्मण, पुरोहित, अथर्ववेदी घर्म ।
 आथी—(हिं. स्त्री.) पुंजी ।
 आवंश—(सं. पुं.) दांत, डंक, दंशन ।
 आदत्त—(अ. स्त्री.) अम्यास, स्वभाव, मली या दुरी लत, व्यसन ।
 आदत्त—(सं. वि.) गृहीत, पकड़ा हुआ, स्वीकृत ।
 आदर—(सं. पुं.) सम्मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा, अनुराग, प्रेम, आसक्ति ।
 आदरणीय—(सं. वि.) सम्मान करने योग्य, ध्यान देने योग्य ।
 आदरना—(हिं. क्रि. स.) सम्मान करना, मानना, इज्जत करना ।
 आदर-भाद—(सं. पुं.) आदर-सत्कार, सम्मान ।
 आदर्य—(सं. वि.) देखें 'आदरणीय' ।
 आदर्श—(सं. पुं.) दर्पण, शीशा, प्रतिलिपि, टीका, मानक चित्र, अनुकरण करने योग्य पदार्थ ।
 आदर्शन—(सं. पुं.) दिखलाना, प्रदर्शित करना, आर्इना ।
 आदर्शित—(सं. वि.) दिखलाया हुआ ।
 आदहन—(सं. पुं.) दाह, हिंसा, मार-काट ।
 आदात्ता—(सं. पुं.) लेने या पानेवाला ।
 आदान—(सं. पुं.) ग्रहण, पकड़ ।
 आदान-प्रदान—(सं. पुं.) लेन-देन ।
 आदापन—(सं. पुं.) निमन्त्रण, न्योता ।
 आदाय—(सं. पुं.) लेना, पाना ।
 आदि—(सं. पुं.) आरम्भ, प्रथम, पहिला, प्रकार, अवयव, मूल कारण; (वि.) पहिले का, आरंभ का; (अच्य.) आदिक ।
 आदिक—(सं. अच्य.) आदि, इत्यादि ।

आदिकर्त्ता—(सं. पुं.) आदिकारक, परमेश्वर ।
 आदिकवि—(सं. पुं.) सबसे पहला महान् कवि, वाल्मीकि ।
 आदिकारण—(सं. पुं.) मूल कारण, सब कारणों का मूल, परमेश्वर, प्रकृति ।
 आदिकाल—(सं. पुं.) प्राचीन समय ।
 आदिकेशव—(सं. पुं.) विष्णु भगवान् ।
 आदिता—(सं. स्त्री.) पूर्वता, प्रथमता ।
 आदित्य—(सं. पुं.) अदिति की सन्तान, देवता, सूर्य ।
 आदित्य—(सं. पुं.) अदिति की सन्तान, देवता, सूर्य, इन्द्र, वामन, वसु, विश्व-देवा, मदार का पौधा, वारह मात्राओं का छन्द; (वारह आदित्यों के नाम-विष्वान्व, अर्यमा, पूषा, त्वष्ठा, सविता, भग, घाता, विघाता, वरुण, मित्र, रुद्र और उरुक्रम हैं ।)
 आदित्य-मंडल—(सं. पुं.) सूर्य का वृत्त ।
 आदित्य-पुराण—(सं. पुं.) एक पुराण का नाम ।
 आदित्यवार—(सं. पुं.) रविवार, एतवार ।
 आदिदेव—(सं. पुं.) नारायण, शिव, सूर्य ।
 आदिपुरुष—(सं. पुं.) हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, नारायण ।
 आदिभव—(सं. पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, परमेश्वर ।
 आदिभूत—(सं. पुं.) देखें 'आदिभव' ।
 आदिम—(सं. वि.) आदि काल में उत्पन्न, पहिला, अगला ।
 आदिमा—(सं. स्त्री.) भूमि, पृथ्वी ।
 आदिरस—(सं. पुं.) शृंगाररस ।
 आदिवंश—(सं. पुं.) प्रथम कुल ।
 आदिनिपुला—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का आर्या छन्द ।
 आदिशक्ति—(सं. स्त्री.) परमेश्वर की मायारूप शक्ति, देवी-मूर्ति ।
 आदिष्ट—(सं. वि.) आज्ञा दिया हुआ, उपदेश किया हुआ ।
 आदो—(हिं. स्त्री.) अदरख; (अ. वि.) जिसे आदत पड़ी हो, अम्यस्त ।
 आदोपक—(सं. वि.) उद्दीपक, प्रकाशक ।
 आदोपित—(सं. वि.) उद्दीपित, प्रकाशित ।
 आदोप्त—(सं. वि.) जलाया हुआ ।
 आदृत—(सं. वि.) सम्मानित, पूजित, आदर किया हुआ ।
 आदिय—(सं. वि.) ग्राह्य, लेने योग्य ।
 आदेश—(सं. पुं.) उपदेश, आज्ञा, प्रमाण, आरोप, समाचार, भविष्यवाणी ।
 आदेशक—(सं. वि.) आदेश देनेवाला ।
 आद्यंत—(सं. अच्य.) आदि से अन्त तक ।
 आद्य—(सं. वि.) आदि में उत्पन्न, प्रधान, बड़ा, पूर्वगामी; (पुं.) आरंभ ।

आद्यबीज—(सं.पुं.) मूल कारण, ईश्वर ।
 आद्या—(सं. स्त्री.) तन्त्रोक्त दुर्गा देवी,
 (यह सत्ययुग में सुन्दरी, त्रेता में
 भुवनेश्वरी, द्वापर में तारिणी और
 कलियुग में काली कहलाती हैं ।)
 आद्योत्—(सं.पुं.) प्रकाश, उजाला, रोशनी ।
 आद्योपांत—(सं. पुं.) आदि से शेष तक ।
 आद्रा—(हिं. स्त्री.) देखें 'आर्द्रा' ।
 आद्य—(हिं. वि.) दो बराबर भागों में
 एक, आधा, (वाटवाले कुछ शब्दों के
 आदि में प्रयुक्त होता है;) यथा—आद्य
 सेर, आद्य मन ।
 आद्यपित्त—(सं.वि.) अपमानित, तिरस्कृत ।
 आधा—(हिं. वि.) अर्ध, दो बराबर
 भागों से एक; (मुहा.) आधे-आध-दो
 बराबर भाग किया हुआ; —तीतर
 —बटेर—वेजोड़, बेमेल; —साझा—(हिं.
 पुं.) बराबर भाग या हिस्सा; —होना—
 क्षीण होना, दुर्बल होना; आधी बात
 कहना—किसी के अनादर की थोड़ी-
 सी बात कहना ।
 आधाता—(सं. वि., पुं.) आधान करने-
 वाला, बंधक रखनेवाला ।
 आधान—(सं. पुं.) ग्रहण, पकड़, प्राप्ति,
 समाई, गभ, बंधक, प्रतिभू, आधार-
 पात्र, वृत्त, घेरा ।
 आधायक—(सं. वि.) देखें 'आधाता' ।
 आधार—(सं. पुं.) सहारा, आश्रय, अव-
 लम्ब, थाला, पात्र, नहर, सम्बन्ध,
 व्याकरण में अविकरण कारक, पानी
 का वाँध, नींव, मूल; (वि.) आश्रय
 देनेवाला, अपने ऊपर धारण करनेवाला ।
 आधारशक्ति—(सं. स्त्री.) शक्ति का रूप,
 माया, प्रकृति ।
 आधार-स्तम्भ—(सं. पुं.) मुख्य आधार
 या सहारा ।
 आधारी—(सं. वि.) आधार संबंधी, सहारा
 लेनेवाला; (हिं. स्त्री.) सहारा लेने की
 लकड़ी जिसको साव लोग टेकने के
 काम में लाते हैं ।
 आधासीसी—(हिं. स्त्री.) अर्धकपाली, आधे
 मस्तक में पीड़ा ।
 आधि—(सं. स्त्री.) मानसिक व्यथा,
 चिन्ता, दुर्भाग्य, आशा, बन्धक,
 लक्षण, निर्देश, अविष्टान ।
 आधिक—(हिं. वि.) प्रायः आधा ।
 आधिकारिक—(सं. पुं., वि.) न्याया-
 धीरा, न्यायालय संबंधी ।
 आधिकारिक—(सं. वि.) प्रवान, श्रेष्ठ,
 अधिकार या पद सम्बन्धी ।

आधिपत्य—(सं. पुं.) अधिकता, बहुतायत ।
 आधिदैविक—(सं. वि.) देवताधिकृत,
 देवता द्वारा होनेवाला ।
 आधिपत्य—(सं. पुं.) स्वामित्व, प्रभुत्व,
 सरदारी ।
 आधिभोग—(सं. पुं.) बंधक की वस्तु
 को काम में लाना ।
 आधिभौतिक—(सं. वि.) व्याघ्र, सर्पादि
 द्वारा प्राप्त, भूमि से उत्पन्न, जीवन-संबंधी ।
 आधिराज्य—(सं. पुं.) साम्राज्य, आधिपत्य,
 स्वामित्व ।
 आधी—(हिं. वि. स्त्री.) देखें 'आधा' ।
 आधीकृत—(सं. वि.) बन्धक रखा हुआ ।
 आधीन—(हिं. वि.) देखें 'अधीन' ।
 आधीनता—(हिं. स्त्री.) देखें 'अधीनता' ।
 आधीरात—(हिं. स्त्री.) अर्धरात्रि, रात
 के बारह वजने का समय ।
 आधुनिक—(सं. वि.) अर्वाचीन, नया,
 वर्तमान समय का, हाल का ।
 आधुवित—(सं. वि.) घूर्ण से आवृत ।
 आधुष्ट—(सं. वि.) निवारित, रोका हुआ ।
 आधक—(हिं. वि.) आधे के बराबर,
 आधे से अधिक नहीं ।
 आधेय—(सं. वि.) दिया जानेवाला,
 रखा हुआ, बताया हुआ, बन्धक में
 रखा जानेवाला ।
 आध्मात—(सं. वि.) वजाया हुआ,
 जलाया हुआ ।
 आध्या—(सं. स्त्री.) चिन्ता ।
 आध्यात्मिक—(सं. वि.) आत्मा-संबंधी,
 परमात्मा-संबंधी ।
 आध्वरिक्—(सं. वि.) सोमयज्ञ संबंधी ।
 आनंद—(सं. पुं.) हर्ष, सुख, प्रसन्नता,
 विष्णु, शिव, बलराम, मद्य ।
 आनंदक—(सं. वि., पुं.) आनन्द देनेवाला ।
 आनंदकर—(सं. वि.) देखें 'आनंदक' ।
 आनंदज—(सं. वि.) आनन्द देनेवाला ।
 आनंदना—(हिं. क्रि. अ.) प्रसन्न होना ।
 आनंदपट—(सं. पुं.) दुर्लभ का
 पहिने का वस्त्र ।
 आनंद-वधाई—(हिं. स्त्री.) मंगल-उत्सव,
 आनन्द का वाजा ।
 आनंदयिता—(सं. पुं.) आनंदक, आनन्द
 देनेवाला मनुष्य ।
 आनंदवन—(सं. पुं.) काशी क्षेत्र, बनारस ।
 आनंदवत्—(सं. पुं.) चैत्रादि चार
 महीने का एक व्रत ।
 आनंदसम्मोहिता—(सं. स्त्री.) आनन्द में
 गली भाँति मोहित होनेवाली नायिका ।
 आनंदा—(सं. स्त्री.) विजया, गाँग ।

आनंदित—(सं. वि.) हर्षयुक्त, प्रसन्न, सुखी ।
 आनंदी—(सं. वि.) प्रसन्न रहनेवाला ।
 आनंदमत्ता—(सं. स्त्री.) देख 'आनंद-
 सम्मोहिता' ।
 आनंदमय—(सं. वि.) आनंदपूर्ण ।
 आन—(सं. पुं.) प्राणवायु का नाक
 द्वारा बाहर निकलना, सुख, स्वास;
 (हिं. स्त्री.) सीमा, हृद, शपथ, धण,
 वनावट, भय, लज्जा, प्रतिज्ञा, विचार,
 हठ, ढंग; (वि.) अन्य दूसरा; (मुहा.)
 —कौ-में-वात की वात में; —तोड़ना-
 प्रतिज्ञा-भंग करना; —रखना-अपनी
 वात रखना ।
 आनक—(सं. पुं.) नगाड़ा, मेरी, मृदंग,
 गरजनेवाला वादल ।
 आनक बुंदुभि—(सं. पुं.) बड़ा नगाड़ा,
 वासुदेव का नाम ।
 आनत्—(सं. वि.) अधोमुख, विनय से
 मुख नीचा किये हुए ।
 आनतान—(हिं. स्त्री.) ऊटपटांग या अंड-
 बंड वात, हठ ।
 आनति—(सं. स्त्री.) झुकाव, झुकना ।
 आनद्ध—(सं. वि.) वृद्ध, बँधा हुआ, गुथा
 हुआ; (पुं.) चमड़ा मढ़ा हुआ वाजा ।
 आनन—(सं. पुं.) मूँह, मुख, मस्तक,
 चेहरा, मूँखड़ा ।
 आनना—(हिं. क्रि. स.) लाना, लिवा लाना ।
 आनवान—(हिं. स्त्री.) चमक-दमक, सज-
 घज, ठाट-घाट ।
 आनयन—(सं. पुं.) विनय, झुकाव ।
 आनमित—(सं. वि.) झुका हुआ, व्याकुल
 किया हुआ ।
 आनरेरी—(अं. वि.) अवैतनिक ।
 आनयन—(सं. पुं.) लाना, उपनयन संस्कार ।
 आनंत—(सं. पुं.) नृत्यशाला, नाच-
 घर, युद्ध, काठियावाड़ का प्राचीन
 नाम, इस देज का निवासी ।
 आनतक—(सं. वि.) नचैया, नाननेवाला ।
 आना—(हिं. पुं.) एक रुपये का सोलहवाँ
 भाग, किसी वस्तु का सोलहवाँ भाग;
 (हिं. क्रि. अ.) आगमन करना, होना,
 बीतना, लौटना, आरंभ होना, लगना,
 उत्पन्न होना, निकलना, पकना, टीला
 होना, नमाना, चढ़ना, देस पढ़ना,
 पहुँचना, चिकना, झिलना, तैयार होना,
 हाथ लगना, फल-पुल लगना, फूलना;
 (मुहा.) आता-जाता-आने-जानेवाला,
 बटोही; आना-जाना-मिलना-जुड़ना,
 भेंट-मुलाकात; आया-गया-अनिधि,
 पाहुने; कुछ न आना-जानरहित होना;

आ पसकना या पड़ना-अचानक आ जाना; आनिकलना-अचानक पहुँचना; आ बतना-अवसर हाथ लगना।
 आनाकानी-(हि. स्त्री.) अनाकनी, अनगुनी करना, गुप्त वार्ता, कानाफूसी।
 आनाय-(सं.पुं.) मछली पकड़ने का जाल।
 आनायी-(सं.पुं.) बीवर, मछुवा।
 आनाह-(सं.पुं.) दैव्य, लंबाई, मल-मूत्र रक्त का रोग।
 आनि-(हि. स्त्री.) देखें 'आन'।
 आनोत-(सं. वि.) गृहीत, लाया हुआ।
 आनुगत्य-(हि. पुं.) अनुसरण।
 आनुपूर्व-(सं.पुं.) एक के बाद एक होना।
 आनुपूर्वी-(सं.वि.) क्रमानुसार, यथास्थित।
 आनुमानिक-(सं. वि.) अनुमान संबंधी।
 आनुहृष्य-(सं.पुं.) सादृश्य, बराबरी।
 आनुलौकिक-(सं.वि.) अपने से छोटी जाति से विवाह करनेवाला।
 आनुशासनिक-(सं. वि.) शासन-संबंधी।
 आनुश्रविक-(सं. वि.) वेद-विहित, वड़ों के मुख से सुना जानेवाला।
 आनुषंगिक-(सं. वि.) अनुरूप, बराबर का, अप्रवान, संघटित, लागू, प्रासंगिक।
 आनूप-(सं. वि.) अनुप देश में उत्पन्न, अनूप देशवासी।
 आनूप-भूमि-(सं.पुं.) सजल भूमि।
 आने-(हि. वि. बहु.) दूसरे, मित्र।
 आनेता-(सं. पुं.) लानेवाला।
 आन्वहिक-(सं.वि.) दैनिक, प्रतिदिन का।
 आन्वीक्ष्यो-(सं. स्त्री.) आत्मविद्या, तर्कविद्या।
 आप-(सं.पुं.) आठों वसुओं में से चौथा, जल का समूह, आकाश, समास के अन्त में इस शब्द का अर्थ 'पानेवाला' होता है, यथा-दुराप; (हि. सर्व.) स्वयं, (तीनों पुत्रों में प्रयुक्त होता है); (मुहा.)-आप करना-आदर दिखलाना; -आप को पड़ना-अपने ही स्वार्थ में लगे रहना; -आप को-अलग-अलग, पृथक्-पृथक्; -आज-(पुं.) अपना कार्य; -आजी-(वि.) अपना मतलब सावनेवाला; -आती-(वि.) अपने ऊपर गुजरा हुआ; -रूप-(वि.) स्वयं, नाधात्; -मे या आप ही आप-स्वयं, बिना प्रेरणा के; -स्वार्थो-(वि.) खुदगर्ज, मतलबी।
 आपत्-(सं. वि.) कुछ पका हुआ।
 आपगा-(सं. स्त्री.) नदी।
 आपटव-(सं. पुं.) भद्दापन।
 आपण-(सं.पुं.) हाट, बेचने का स्थान।
 आपण्ड्य-(सं. वि.) वाणिज्य संबंधी।

आपत्-(सं. स्त्री.) देखें 'आपद'।
 आपतन-(सं.पुं.) अवतरण, उतार, प्राप्ति।
 आपत्कल्प-(सं. पुं.) आपत्ति-काल में किया जानेवाला कार्य।
 आपत्काल-(सं. पुं.) विपत्ति का समय, क्लेश, दुष्काल।
 आपत्कालिक-(सं. वि.) विपत्ति के समय होनेवाला।
 आपत्ति-(सं.स्त्री.) क्लेश, विपत्ति, संकट या कष्ट का काल, प्राप्ति, जीविका का कष्ट, रोगग्रस्त अवस्था।
 आपत्य-(सं. वि.) सन्तान संबंधी।
 आपद-(सं. स्त्री.) विपत्ति, दुःख, कष्ट, दुर्घटना।
 आपदा-(हि. स्त्री.) दुःख, विपत्ति, क्लेश, कष्ट का समय।
 आपद्ग्रस्त-(सं. वि.) विपत्ति से पीड़ित, हतभाग्य।
 आपद्धर्म-(सं. पुं.) विपत्ति के समय विधान करने का धर्म।
 आपन-(हि. सर्व.) अपना, निजी।
 आपत्तिवि-(हि. पुं.) समुद्र, जलनिधि।
 आपनय-(हि.वि.) प्राप्त किये जाने योग्य।
 आपनो-(हि. सर्व.) देखें 'अपना'; (पुं.) अहंकार, आत्मभाव।
 आपन्न-(सं. वि.) दुःखी, संकट में पड़ा हुआ, प्राप्त, पाया हुआ।
 आपरार्हिक-(सं.वि.) तीसरे पहर होनेवाला।
 आपवर्ग्य-(सं. वि.) मोक्ष देनेवाला।
 आपस-(हि. स्त्री.) आत्मीयता, मेल-जोल; (मुहा.)-आ-एक दूसरे का, परस्परका; -में-एक दूसरे के साथ; -दारी-(स्त्री.) भाईचारा; -वाले-स्वजन, संबंधी, मेली।
 आपसी-(हि.वि.) आत्मीय, संबंधी, मेली।
 आपस्तंब-(सं. पुं.) कृष्ण यजुर्वेद के प्रवर्तक एक ऋषि।
 आपा-(हि. पुं.) स्वीयभाव, अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व, दर्प, घमंड, (महाराष्ट्र देश के लोग बड़े भाई को आपा पुकारते हैं); -(मुहा.)-खोना-विनीत भाव ग्रहण करना; आपे में आना-सचेत होना; आपे में न रहना-अधिकार के बाहर होना; अति क्रोध दिखलाना; उत्तेजना या आवेश में विवेक खो देना।
 आपात-(सं.पुं.) पड़ना, घावा, पहुँच, वर्तमान काल, उपक्रम, समीप आगमन, घटना, धक्का।
 आपाततः-(सं. अव्य.) पहिली बार,

तुरत, हठात्।
 आपातलतिका-(सं.स्त्री.) एक वृत्त विशेष।
 आपाती-(सं. वि.) अधोगामी, उतारू।
 आपाद-(सं. अव्य.) पैर तक।
 आपादमस्तक-(सं. वि., अव्य.) सिर से पैर तक।
 आपाघापी-(हि. स्त्री.) अपने-अपने कार्य की चिन्ता, खींचातानी, लड़ाई-झगड़ा।
 आपान-(सं. पुं.) मद्य पीने का स्थान या दुकान।
 आपापंथो-(हि. वि.) अपनी ही राह चलनेवाला, मनमानी करनेवाला।
 आपायत-(हि. वि.) आप्यायित, सन्तुष्ट।
 आपालि-(सं. पुं.) केशकीट, जूँ।
 आपी-(सं. स्त्री.) पूर्वापादा नक्षत्र; (हि. सर्व.) आप ही आप, स्वयं।
 आपीड़-(सं. वि.) पीड़ा देनेवाला; (पुं.) शिर का आभूषण, हार।
 आपीड़न-(सं. पुं.) संकोचन, दबाव।
 आपीड़ित-(सं. वि.) कष्ट दिया हुआ, दबाया हुआ।
 आपु-(हि. सर्व.) देखें 'आप'।
 आपुन-(हि. सर्व.) अपना, निजी।
 आपुस-(हि. पुं.) देखें 'आपस'।
 आपूप-(सं. पुं.) टिकिया, रोटी, माल-पूआ।
 आपूर-(सं. वि.) व्याप्त, भरा, पूरा।
 आपूरना-(हि. क्रि. स.) आपूरण करना, भरना।
 आपूरित-(सं. वि.) भरा हुआ।
 आपेक्षिक-(सं. वि.) तुलना द्वारा प्राप्त, तुलना से निर्धारित होनेवाला, निर्भर होनेवाला।
 आप्त-(सं. वि.) प्राप्त, पाया हुआ, विश्वस्त, ठीक, कुशल, संबंधी, सम्पूर्ण, सत्य, बराबर, प्राकृतिक, अभियुक्त, प्रामाणिक, सामान्यरूप से प्रयोग में आनेवाला; (पुं.) योग्य पुरुष, मित्र।
 आप्तकाम-(सं. वि.) तृप्त, संतुष्ट, जिसकी सब कामनाएँ पूरी हुई हों।
 आप्तकारी-(सं. पुं.) उचित रीति से काम करनेवाला।
 आप्तगर्भा-(सं. स्त्री.) गर्मिणी स्त्री।
 आप्ति-(सं. स्त्री.) प्राप्ति।
 आप्य-(सं. वि.) जल-संबंधी, जलमय।
 आप्यान-(सं. पुं.) वृद्धि, बढ़ती।
 आप्यायन-(सं. पुं.) वृद्धि, तृप्ति, प्रीति, बढ़ती, धगधानी, उत्तम अवस्था उत्पन्न करने का भाव, दीक्षा देने के मन्त्र का संस्कार विशेष।
 आप्यायित-(सं. वि.) वर्धित, आनन्दित।

आप्रच्छन्न—(सं. वि.) अत्यन्त गुप्त ।
 आप्लव, आप्लवन—(सं.पुं.) जल में गोता लगाना, स्नान ।
 आप्लावित—(सं. वि.) भीगा हुआ, स्नान किया हुआ ।
 आप्लुत—(सं. वि.) डूबा हुआ ।
 आफत—(अ. स्त्री.) विपद्, दुःख, संकट; (मुहा.)—का मारा-विपद्-ग्रस्त;—ढाना-उपद्रव मचाना;—सोल लेना,—सिर पर लेना—कोई झंझट-बखेड़ा अपने सिर लेना ।
 आफिस—(अं. पुं.) कार्यालय ।
 आफिसर—(अं. पुं.) अधिकारी, अफसर ।
 आफू—(सं. पुं.) अफीम ।
 आफूक—(सं. पुं.) अहिफेन, अफीम ।
 आवध (न)—(सं. पुं.) ग्रन्थि, गाँठ ।
 आवद्ध—(सं. वि.) प्रतिबद्ध, बँधा हुआ ।
 आवहं—(सं. पुं.) मारकाट, हिंसा ।
 आवोधन—(सं. पुं.) विद्या, बुद्धि, शिक्षा ।
 आव्द—(सं. वि.) मेघजात, मेघ से उत्पन्न ।
 आव्दिक—(सं. वि.) वार्षिक ।
 आभ—(हिं.पुं.) अन्न, आसमान, आप, जल ।
 आभरण—(सं. पुं.) अलंकार, आसूषण, पालन-पोषण ।
 आभरन—(हिं. पुं.) देखें 'आभरण' ।
 आभरित—(सं. वि.) अलंकृत, सजा हुआ ।
 आभा—(सं. स्त्री.) दीप्ति, चमक, शोभा, कान्ति, प्रतिबिम्ब, छाया ।
 आभार—(सं. पुं.) भार, गृहस्थी का भार, उपकार, एक वर्णवृत्त ।
 आभारी—(सं. वि.) उपकार माननेवाला ।
 आभाषण—(सं. पुं.) वार्तालाप, बातचीत ।
 आभास—(सं. पुं.) प्रतिबिम्ब, परछाँही, झलक, संकेत, झूठा दिखावा, तुल्यता, प्रकाश, मिथ्या ज्ञान ।
 आभास्वर—(सं. वि.) चमकनेवाला ।
 आभिवानिक—(सं. वि.) कोप बनानेवाला ।
 आभिरूप्य—(सं. पुं.) सौंदर्य, पांडित्य ।
 आभीर—(सं. पुं.) गोप, अहीर, ग्वाल ।
 आभीर-पल्ली—(सं. स्त्री.) अहीरों के रहने की बस्ती, अहिरान ।
 आभीरी—(सं. स्त्री.) अहिरिन, अहीरों की भाषा ।
 आभूषण—(सं. पुं.) अलंकार ।
 आभूषित—(सं. वि.) अलंकृत, आभरित ।
 आभोग—(सं. पुं.) परिपूर्णता, मत्त, गाने के अन्त में कवि का गान-कथन ।
 आभोगी—(नं. वि.) परिपूर्ण, मुग्न भोगनेवाला ।
 आन्यतर—(सं. वि.) गन्धर्वती, भीतरी ।

आन्यतरिक—(सं. वि.) भीतरी ।
 आन्याशिक—(सं. वि.) समीपस्थ, पड़ोस का, पड़ोसी ।
 आन्यासिक—(सं. वि.) अन्यास का ।
 आन्युदयिक—(सं. वि.) अभ्युदय संबंधी, मांगलिक, सुख-सौभाग्य बढ़ानेवाला; (पुं.) नान्दीमुख श्राद्ध ।
 आनत्रण—(सं. पुं.) निमन्त्रण, नेवता, विवेचन, गौर ।
 आमंत्रित—(सं. वि.) न्योता पाया हुआ ।
 आम—(सं. वि.) अपक्व, जो पका न हो, कच्चा, जो (भोजन) पचा न हो, बिना पचा हुआ मल, आँव; (हिं.पुं.)—आम्र, रसाल वृक्ष तथा फल दोनों के लिए व्यवहृत होता है; (अ. वि.) साधारण, सामान्य; (मुहा.)—के आम गुठली के दाम-दोहरा लाभ; दरबार आम—(पुं.) राजसभा जिसमें सर्वसामान्य जा सकते हैं;—अख्तियार—(पुं.) सामान्य अधिकार;—खास—(पुं.) राजमहल का वह भीतरी भाग जहाँ राजा का आसन रहता है;—जलसा—(पुं.) सार्वजनिक उत्सव;—पाक—(सं.पुं.) जलोदर नामक रोग;—रक्त—(सं.पुं.) रक्त अतिसार;—वात—(सं. पुं.) एक वातरोग जिसमें अंग में पीड़ा, आलस्य तथा शूल होता है और अन्न का भली-भाँति परिपाक नहीं होता, गठिया;—जल—(सं. पुं.) आँव के कारण पेट में ऐंठन और पीड़ा होना ।
 आमड़ा—(हिं. पुं.) आघातक, एक बड़ा आम के बराबर का वृक्ष जिसके फल वेर के बराबर तथा खड़े होते और अचार बनाने के काम में आते हैं ।
 आमन—(हिं. पुं.) एक-फसला खेत ।
 आमनाय—(हिं. पुं.) देखें 'आम्नाय' ।
 आमना-सामना—(हिं. पुं.) सन्मुख होने का भाव, भेंट ।
 आमनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'आमन' ।
 आमने-सामने—(हिं. अव्य.) प्रत्यक्ष, सन्मुख ।
 आमय—(सं. पुं.) आघात, चोट, रोग, बीमारी ।
 आमरस्तातिसार—(नं. पुं.) वह रोग जिसमें आँव के मांस लोह गिरता है ।
 आमरण, आमरणांत—(सं. वि, अव्य.) मृत्यु-पर्यन्त, जीवन भर ।
 आमरणांतिक—(सं. वि.) मरने तक रहनेवाला, आमरण ।
 आमरस—(नं. पुं.) अपक्व रस; (हिं. पुं.) अमरन ।
 आमदं—(सं. पुं.) संकोचन, दबाव, रौंद,

टक्कर ।
 आमर्षन—(सं. पुं.) देखें 'आमर्द' ।
 आमर्ष—(सं. पुं.) अनुमति ।
 आमर्ष—(सं. पुं.) अक्षमा, असहन, बेचैनी, क्रोध ।
 आमलक—(सं. पुं.) आमले का फल, आँवला ।
 आमलकी—(सं. स्त्री.) छोटी जाति का आँवला, आँवली ।
 आमला—(हिं. पुं.) आँवला ।
 आमर्षा—(हिं. पुं.) देखें 'आर्षा' ।
 आमाजीर्ण—(सं. पुं.) आँव के कारण भोजन न पचना ।
 आमातिसार—(सं. पुं.) आँव-लोह का शीघ्र ।
 आमात्य—(सं. पुं.) मन्त्री, नायक, सरदार ।
 आमालक—(सं. पुं.) पर्वत के निकट की भूमि, तराई ।
 आमादाय—(सं. पुं.) जठर, कोष्ठ, पेट के भीतर की वह थैली जिसमें साया हुआ अन्न जाता और पचता है ।
 आमाहृदी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का कन्द जो हृदी की तरह का होता है और औषधि में प्रयुक्त होता है ।
 आम्बिन्—(सं. वि.) अन्न-संबंधी ।
 आमिल—(अ. वि., पुं.) अमल करनेवाला, काम करनेवाला, कर्मचारी ।
 आमिप—(सं. पुं.) मांस, भोग्य वस्तु, भोजन, लाभ, तृष्णा, लालच ।
 आनिपप्रिय—(सं. पुं.) मांसभक्षक, कौवा ।
 आनिपाशी—(नं. पुं.) मांस खानेवाला ।
 आभी—(हिं. स्त्री.) छोटा कच्चा आम, गेहूँ या जौ की मूनी हुई बाल; (अ. अव्य.) एवमस्तु, ऐसा ही हो ।
 आभीलन—(सं. पुं.) नेत्रों का बन्द करना ।
 अममुक्त—(सं. वि.) अवद्ध, विमुक्त, खाला हुआ ।
 आमूक्त—(सं. स्त्री.) मोक्ष; (अव्य.) मोक्ष पर्यन्त ।
 आमूल—(सं. पुं.) आरम्भ, प्रस्तावना ।
 आमूल—(सं. अव्य.) मूल पर्यन्त ।
 आभीचन—(नं. पुं.) वियोग, विलगाव ।
 आभोद—(नं. पुं.) प्रसन्नता, हर्ष, तीव्र गन्ध ।
 आभोदन—(नं. पुं.) प्रसन्न करने का कार्य ।
 आभोद-प्रभोद—(नं. पुं.) नोग-विलान, रागरंग ।
 आभोदा—(नं. स्त्री.) मत्तवर्णी, मत्तावर ।
 आभोदित—(नं. वि.) प्रसन्न, मीरसिन, मुन्नानिद, मीठा ।
 आभोदी—(नं. वि.) हर्षजन्य, प्रसन्न रहनेवाला, गन्धमुक्त, शोभा ।

दाम्नाय—(सं. पुं.) वेद, श्रुति, तर्क-
शास्त्र, अन्त्यास, सम्प्रदाय, उपदेश, कुल ।
आम्र—(सं. पुं.) आम का वृक्ष या फल ।
आम्रकण्ट—(सं. पुं.) अमरकण्टक पर्वत
का प्राचीन नाम ।
आम्ल—(सं. पुं.) इमली का वृक्ष, अम्ल-
वेत, सदाई; (वि.) अम्ल संवंधी;
-फल—(सं. पुं.) कषित्य, कैय ।
आम्र—(सं. स्त्री.) आम, वनागम; -कर—
(पुं.) अधिक आम्र पर लगनेवाला कर ।
आयत—(सं. वि.) विस्तृत, दीर्घ, विशाल,
लम्बा-चोंड़ा, दृढ़; (पुं.) ज्यामिति का
रामकोण चतुर्भुज ।
आयतन—(सं. पुं.) क्षेत्रफल, आश्रय, हेतु,
विश्राम-स्थान, मठ, मन्दिर, घर, प्रतिमा,
यज्ञ-स्थान ।
आयताक्ष—(सं. वि.) बड़ी-बड़ी आँखवाला ।
आयति—(सं. स्त्री.) उत्तर-काल, प्रभाव,
संगम ।
आयत्त—(सं. वि.) वशीभूत, अधीन ।
आयत्ति—(सं. स्त्री.) सामर्थ्य, स्नेह, प्रभाव,
सीमा, अधीनता ।
आयस—(सं. वि.) लोहमय; (पुं.) लोहा,
लोहे का हथियार ।
आयसी—(सं. वि.) लोहे का बना हुआ;
(स्त्री.) कवच ।
आयु—(हिं. पुं.) आज्ञा ।
आयुस्कार—(सं. पुं.) लोहकार, लोहार ।
आयुस्थान—(सं. पुं.) लाम-स्थान, आम-
दनी की जगह ।
आया—(हिं. क्रि. अ.) उपस्थित हुआ, आ
पहुँचा; (स्त्री.) धाय ।
आयाचित—(सं. वि.) माँगा हुआ ।
आयात—(सं. वि.) आगत, आया हुआ;
(पुं.) विदेशों से माल मँगाने का व्यापार ।
आयान—(सं. पुं.) आगमन, स्वभाव ।
आयाम—(सं. पुं.) विस्तार, लंबाई, नियम ।
आयस—(सं. पुं.) अति यत्न, परिश्रम,
कोशिश ।
आयु—(सं. स्त्री.) आयुष्य, उम्र ।
आयुक्त—(सं. वि.) नियुक्त ।
आयुत—(सं. वि.) आर्द्रभूत, पिघला हुआ ।
आयुध—(सं. पुं.) अस्त्र, हथियार ।
आयुधजीवी—(सं. पुं.) मट, मोट्टा ।
आयुधगार—(सं. पुं.) अस्त्रालय ।
आयुधी—(सं. पुं.) योद्धा, सिपाही ।
आयुधुत—(सं. पुं.) आयु का बल, आयुष्य ।
आयुधुद—(सं. पुं.) धन्वन्तरि-प्रणीत
चिकित्सा-शास्त्र ।
आयुर्वेदिक—(सं. वि.) आयुर्वेद (चिकित्सा)

संवंधी ।
आयुर्वेदी—(सं. पुं.) चिकित्सक, वैद्य ।
आयुष्कर—(सं. वि.) आयुष्य बढ़ानेवाला ।
आयुष्मान्—(सं. वि.) दीर्घजीवी, वृद्ध,
चिरंजीवी ।
आयुष्य—(सं. पुं.) आयु, उम्र ।
आयोग—(सं. पुं.) व्यापार, नियुक्ति,
अवरोध ।
आयोगव—(सं. पुं.) वैश्य स्त्री और शूद्र
पुरुष से उत्पन्न एक संकर जाति, बड़ई ।
आयोजन—(सं. पुं.) संग्रह का कार्य,
प्रबंध, नियुक्ति, उद्योग, सामग्री, आहरण,
घर-पकड़ ।
आयोजित—(सं. वि.) सम्पादित, रचा हुआ ।
आयोचन—(सं. पुं.) रणक्षेत्र, लड़ाई का
मैदान, युद्धभूमि ।
आरंभ—(सं. पुं.) शुरु, श्रोगणेश ।
आरंभक—(सं. पुं.) आरम्भ करनेवाला ।
आरंभी—(सं. वि.) आरंभ करनेवाला,
आरंभ का ।
आरंभना—(हिं. क्रि. स.) आरंभ करना ।
आर—(सं. पुं.) मंगल ग्रह, प्रान्त, भाग,
गमन, दूरी, एक प्रकार का लोहा,
पीतल, कोना, पहिये का आरा, हरताल;
(हिं. पुं.) ईख का रस निकालने का
करछला, मिट्टी का लोंदा, आग्रह;
(स्त्री.) लोहे की कील, उंक, चमड़ा
छेदने का सुवा, टेकुवा; (अ. स्त्री.)
शर्म, लज्जा, तिरस्कार, वैर ।
आरवत—(सं. वि.) कुछ लाल रंग का;
(पुं.) लाल चंदन ।
आरवित्त—(हिं. स्त्री.) लालिमा, अनुराग ।
आरक्षक—(सं. वि.) रक्षा करनेवाला ।
आरग्वध—(सं. पुं.) अमलतास का वृक्ष ।
आरणि—(सं. पुं.) जल का आवर्त, भँवर ।
आरण्य—(सं. वि.) वनजात, जंगली ।
आरण्यक—(सं. वि.) अरण्य संवंधी,
जंगली, योगामिलापी पुरुष का
योग-शास्त्र ।
आरत—(सं. वि.) शान्त, सीधा; (हिं. वि.)
देखें 'आर्त' ।
आरति—(हिं. स्त्री.) देखें 'आरती' ।
आरती—(सं. स्त्री.) निवृत्ति, ठहराव, नीरा-
जन, आरती का पात्र, देवता की प्रतिमा
के चारों ओर दीपक घुमाना, आरती
उतारने का पात्र, आरती के समय
पढ़ने का स्तोत्र ।
आरद्ध—(सं. वि.) संसिद्ध ।
आर-पार—(हिं. अव्य.) तीरान्तर, एक
किनारे से दूसरे किनारे तक; (पुं.) यह

किनारा और वह किनारा; (क्रि. प्र.)
-करना-वेचना, सालना ।
आरव्य—(सं. वि.) आरंभ किया हुआ ।
आरव्यमान—(सं. वि.) आरम्भ होने-
वाला, आरम्भ करनेवाला ।
आरभट—(सं. पुं.) शूरवीर, वहादुर ।
आरभटी—(सं. स्त्री.) वीर रस युक्त
नाटक की रचना, माया, इन्द्रजाल,
युद्ध, क्रोध, वध, वंचना आदि युक्त
वृत्ति, घृष्टता ।
आरव—(सं. पुं.) शब्द, पुकार, आहट ।
आरस—(हिं. पुं.) आलस्य, सुस्ती ।
आरसी—(हिं. स्त्री.) दर्पण, शीशा जड़ी
हुई अँगूठी जिसको स्त्रियाँ अँगूठे में
पहिनती हैं ।
आरा—(सं. पुं.) चमड़ा छेदने का
टेकुआ, कोड़ा, लकड़ी चीरने की
दाँतेदार लोहे की चौड़ी पट्टी, पहिये
में बेलन से पुट्टी तक जड़ी हुई
लकड़ी की पट्टी ।
आराइश—(अ. स्त्री.) सजावट ।
आराकश—(हिं. पुं.) आरे से लकड़ी
चीरनेवाला ।
आराजी—(फा. स्त्री.) देखें 'अराजी' ।
आराति—(सं. पुं.) शत्रु, वैरी ।
आराधक—(सं. वि.) उपासना करने-
वाला, पूजा-पाठ करनेवाला ।
आराधन—(सं. पुं.) उपासना, सेवा,
पूजा, अर्चन, प्राप्ति, पूजा-पाठ ।
आराधना—(सं. स्त्री.) सेवा, पूजा, उपा-
सना; (हिं. क्रि. स.) आराधना करना,
पूजा करना ।
आराधनीय—(सं. वि.) आराधन किये
जाने योग्य ।
आराधित—(सं. वि.) अर्चित, सेवित,
पूजा किया हुआ ।
आराध्यमान—(सं. वि.) पूजा जानेवाला ।
आराम—(सं. पुं.) उपवन, फुलवाड़ी,
वगीचा, एक प्रकार का दण्डक वृत्त ।
आरामिक—(सं. पुं.) वागवान, माली ।
आरि—(हिं. स्त्री.) जिद, हठ ।
आरिया—(हिं. स्त्री.) पतली ककड़ी ।
आरी—(हिं. स्त्री.) बड़ई का लकड़ी
चीरने का अस्त्र, छोटा आरा, चमड़ा
छेदने का टेकुआ, छोर, किनारा,
गाड़ी हाँकनेवाले के पैने में लगी हुई लोहे
की कील; (क्रि. प्र.)-आना-थक जाना ।
आरु—(सं. पुं.) एक प्रकार का बड़ा
जंगली वृक्ष, कर्कट, कैंकड़ा ।
आरुण्य—(सं. पुं.) अरुणता, लाली ।

आरुद्ध-(सं. वि.) प्रतिरुद्ध, वैधा हुआ।
 आरुद्ध-(सं. वि.) चढ़नेवाला, चढ़ा हुआ, दृढ़, स्थिर, तत्पर, सन्नद्ध।
 आरुद्ध-यौवना-(सं. स्त्री.) एक प्रकार की मध्या नायिका जो स्वामी के सहवास से प्रसन्न रहती है।
 आरे-(हिं. अल्प.) समीप, पास।
 आरेस-(हिं. पूं.) ईर्ष्या।
 आरो-(हिं. पूं.) देखें 'आरख'।
 आरोग-(हिं. वि., पूं.) देखें 'आरोग्य'।
 आरोगना-(हिं. क्रि. स.) भोजन करना, खाना।
 आरोग्य-(सं. पूं.) रोगशून्यता; (वि.) स्वस्थ, नीरोग।
 आरोग्यता-(हिं. स्त्री.) स्वास्थ्य।
 आरोग्यशाला-(हिं. स्त्री.) चिकित्सालय।
 आरोग्यक-(सं. स्त्री.) प्रतिबन्धक, रोकने-वाला, बाधक।
 आरोग्यना-(हिं. क्रि. स.) अवरोध करना, रोकना।
 आरोग्यनीय-(सं. वि.) रोके जाने योग्य।
 आरोप-(सं. पूं.) निवेशन, स्थापन, लगाव, जोड़, मिथ्या ज्ञान, झूठी कल्पना, रोपना, बैठाना, एक स्थान से किसी पौधे को उखाड़कर दूसरे स्थान में बैठाना।
 आरोपक-(सं. वि.) आरोपण करनेवाला।
 आरोपण-(सं. पूं.) पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में बैठाना, स्थापित करना, ऊपर को उठाना, झूठा ज्ञान, मढ़ना, लगाना, विश्वास।
 आरोपणीय-(सं. वि.) स्थापनीय, रक्खा जानेवाला।
 आरोपना-(हिं. क्रि. स.) स्थापित करना, लगाना, बैठाना, ऊपर को चढ़ाना।
 आरोपित-(सं. वि.) स्थापन किया हुआ, रोपा हुआ।
 आरोह-(सं. पूं.) चढ़ना, नीचे से ऊपर को उठना, अँखुवा निकलना, हाथी या घोड़े की सवारी, लंबान, ऊँचाई, अवतरण, उतार, दर्प, धर्मंड, विकास, नितंब, चूतड़।
 आरोहक-(सं. वि.) उठनेवाला, चढ़ने या चढ़ानेवाला; (पुं.) सवार।
 आरोहण-(सं. पूं.) सवार होना, चढ़ना, नीचे से ऊपर को जाना, अँखुवा फूटना, सोपान, सीढ़ी।
 आरोहणीय-(सं. वि.) चढ़ने योग्य।
 आरोही-(सं. वि.) ऊपर जानेवाला, चढ़नेवाला; (पुं.) वह पौधा जिसकी टहनियाँ लिपट जाती हैं, बेल।

आर्क-(सं. वि.) सूर्य संबंधी, मदारसंबंधी।
 आर्गल-(सं. पूं.) अर्गला, चटखनी।
 आर्जव-(सं. पूं.) सरलता, सीधापन, सदाचार, सच्चाई।
 आर्द-(अं. पूं.) कला, शिल्प, दस्तकारी।
 आर्दर-(अं. पूं.) आज्ञा, आदेश।
 आर्त-(सं. वि.) पीड़ित, दुःखित, अस्वस्थ, आहत, चोट खाया हुआ।
 आर्तता-(सं. स्त्री.) पीड़ा, कष्ट, दुःख।
 आर्तनाद-(सं. पूं.) पीड़ा से निकला हुआ शब्द।
 आर्तबंधु-(सं. पूं.) दुखियों का सहायक।
 आर्तव-(सं. पूं.) ऋतु में होनेवाला पुष्प, ऋतुमती स्त्री का रक्त; (वि.) ऋतु संबंधी।
 आर्तस्वर-(सं. पूं.) देखें 'आर्तनाद'।
 आर्ति-(सं. स्त्री.) पीड़ा, मनोव्यथा।
 आर्तिहर-(सं. वि.) पीड़ा हरनेवाला।
 आर्थिक-(सं. वि.) धन संबंधी, द्रव्य संबंधी।
 आर्थी-(सं. वि.) अर्थ संबंधी; (स्त्री.) व्यंजना, एक प्रकार का उपमालंकार।
 आर्द्र-(सं. वि.) भीगा हुआ, ओढ़ा।
 आर्द्रक-(सं. पूं.) अदरक, आदी।
 आर्द्रता-(सं. स्त्री.) गीलापन, तरी, क्रोमलता।
 आर्द्रनयन-(सं. वि.) आँखों में आँसू भरे हुए।
 आर्द्रा-(सं. स्त्री.) सत्ताइस नक्षत्रों में छठा नक्षत्र, (इस नक्षत्र में सूर्य के आने से वर्षा का आरम्भ होता है।)
 आर्द्रावीर-(सं. पूं.) शक्ति का उपासक, वाममार्गी।
 आर्धमासिक-(सं. वि.) आधे महीने रहनेवाला।
 आर्य-(सं. पूं.) कुलीन, सम्य, सज्जन, पूज्य, श्रेष्ठ, उच्चकुल में उत्पन्न, स्वामी, मित्र, वेदोक्त प्राचीन सम्य जाति।
 आर्यता-(सं. स्त्री.) माननीय आचरण, भलमनसी।
 आर्यत्व-(सं. पूं.) देखें 'आर्यता'।
 आर्य-धर्म-(सं. पूं.) सदाचार, अच्छी चाल-चलन।
 आर्यपथ-(सं. पूं.) सदाचार।
 आर्यपुत्र-(सं. पूं.) उपाध्याय का पुत्र, नाट्यनाया में पति को पुकारने का शब्द।
 आर्यरूप-(सं. वि.) कपटी, दम्नी।
 आर्यलिंगो-(सं. वि.) देखें 'आर्यरूप'।
 आर्यवृत्ति-(सं. स्त्री.) सदाचार, सज्जनता।
 आर्यवेश-(सं. वि.) सुन्दर वस्त्र पहिने हुए।
 आर्य समाज-(सं. पूं.) स्वामी दयानंद का प्रचार किया हुआ आर्यों का एक धार्मिक समाज।
 आर्या-(सं. स्त्री.) दुर्गा, पावती, साध.

श्रेष्ठ स्त्री, पितामही, दादी, एक अर्थमात्रिक छन्द का नाम।
 आर्यावर्त-(सं. पूं.) भारत का उत्तरी भाग।
 आर्य-(सं. वि.) ऋषि संबंधी, ऋषि-कृत, प्राचीन वैदिक; -धर्म-(पुं.) मनु आदि स्मृतिकारों का कहा हुआ धर्म; -प्रयोग-(पुं.) शब्दों का व्यवहार जो व्याकरणके नियमों का उल्लंघन करके ऋषियों ने प्रयोग किया है; -विवाह-(पुं.) स्मृतियों में कहे हुए आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्रकार का विवाह जिसमें कन्या का पिता घर से दो बेल लेकर कन्या देता था।
 आर्हत-(सं. वि.) जैन धर्म संबंधी; (पुं.) जैन।
 आलंग-(हिं. पूं.) कामवेग, मस्ती; (क्रि. प्र.)-पर धाना-घोड़ी का मस्त होना।
 आलंब-(सं. पूं.) आश्रय, सहारा, आधार, टेक, धूनी, लंब।
 आलंबन-(सं. पूं.) आश्रय, सहारा, कारण।
 आलंबित-(सं. वि.) गृहीत, पकड़ा हुआ, रक्षित, आश्रित।
 आलंबी-(सं. वि.) आश्रयी, सहारा, लेनेवाला, अधीन।
 आलंब, आलंबन-(सं. पूं.) स्पर्श।
 आल-(सं. पूं.) हस्ताल, मछली या मेढक का अण्डा; (वि.) अधिक भीगा, गीला, ज्यादा, श्रेष्ठ; (हिं. स्त्री.) एक प्रकार का पौधा जिससे रंग बनता है, लीकी; (पुं.) उभरव, जगड़ा, अश्रु, आँसू, गाँव के बाहर का भाग।
 आलक-(सं. पूं.) हस्ताल, पीली संतिया।
 आलकसी-(हिं. वि.) आलसी, मुस्त।
 आलयी-पालयी-(हिं. स्त्री.) दाहिने पैर की एड़ी बायें पैर पर तथा बायें पैर की एड़ी दाहिनी जाँघ पर रखकर बैठने का आसन।
 आलन-(हिं. पूं.) मिट्टी का गारा, गोबर के गोहरे में मिलाया जानेवाला सानी; साग में मिलाया जानेवाला बेसन।
 आलना-(हिं. पूं.) पक्षी का स्थान, घोंसला।
 आलपाका-(हिं. पूं.) देखें 'अलपाका'।
 आलपीन-(हिं. स्त्री.) पत्र आदि में लगाने की घुंटीदार मुट्ठी।
 आलवाल-(हिं. पूं.) वृक्ष के चारों ओर का घाला।
 आलव्य-(सं. वि.) नसुत, मिटा हुआ।
 आलय-(सं. पूं.) घर, महान, हृषीकेश, वाधार-स्थान।
 आलयाल-(सं. पूं.) वृक्ष के चारों ओर का घाला, घालवाला।

वालस- (हि. पुं.) आलस्य ।
 वालसो- (हि. वि.) आलस्ययुक्त ।
 वालस्य- (सं. पुं.) काम करने में धनुस्नाह, सुस्ती, काहिली ।
 वाला- (हि. वि.) तर, गीला, मवाद या पीत्र देनेवाला; (पुं.) ताता, मोखा, धरवा, कुम्हार का आवाँ, हथियार; (अ. वि.) ऊँचा, श्रेष्ठ, आँवल ।
 आलात- (सं. पुं.) अंगारा, कोयला, आवाँ, पाजावा ।
 आलातन- (सं. पुं.) हाथी को बाँधने का सूँटा, बाँधने का रस्सा, गाँठ, बन्धन, शिव के एक मन्त्री का नाम ।
 आलाप- (सं. पुं.) संभाषण, कथन, बोलचाल, परस्पर कथन, गणित के प्रश्न का निर्देश, संगीत में सातों स्वरों का रागसहित उच्चारण ।
 आलापक- (सं. वि., पुं.) आलाप करनेवाला, गानेवाला ।
 आलापचारी- (सं. स्त्री.) स्वर-साधन, तान लगाने का काम ।
 आलापन- (सं. पुं.) परस्पर वार्तालाप, आलाप लेना ।
 आलापना- (हि. क्रि. स.) सुर खींचना, तान लगाना ।
 आलापनीय- (सं. वि.) आलाप करने योग्य ।
 आलापित- (सं. वि.) बोला हुआ, गाया हुआ ।
 आलापी- (सं. वि.) बोलनेवाला, तान लगानेवाला, गानेवाला ।
 आलिंग, आलिंगन- (सं. पुं.) गले से गला लगाना, अँकवारी ।
 आलिंगना- (हि. क्रि. स.) आलिंगन करना, लपटाना, गले लगाना ।
 आलिंगित- (सं. वि.) आलिंगन किया हुआ, गले से गला लगाया हुआ ।
 आलिंगी- (सं. वि.) आलिंगन करनेवाला ।
 आलिजर- (सं. पुं.) मिट्टी का जल रखने का बड़ा घड़ा ।
 आलिंद- (सं. पुं.) घर के सामने का मंच ।
 आलि- (सं. स्त्री.) सखी, सहेली, पंक्ति, सतर, मन्तति, नाला; (पुं.) विच्छेद, भौरा ।
 आलिप्त- (सं. वि.) लीपा-पीता हुआ ।
 आली- (सं. स्त्री.) सखी, सहेली, पंक्ति; (हि. वि. स्त्री.) भीगी हुई, गीली ।
 आलीन- (सं. वि.) गला हुआ, पिघला हुआ ।
 आलुचन- (सं. पुं.) नोच-बसोट, चौर-फाड़ ।
 आलुचित- (सं. वि.) नोचा-उरगोटा हुआ ।
 आलुइन- (सं. पुं.) लूटपाट, छीना-छोनी ।
 आलु- (सं. पुं.) उल्लू, जमीकन्द, मूरन ।
 आलुफी- (सं. स्त्री.) रक्तालु, घुइयाँ ।

आलू- (हि. पुं.) एक प्रकार का कन्द जो तरकारी बनाकर खाया जाता है ।
 आलून- (सं. वि.) कुछ कटा या छँटा हुआ ।
 आलूवालू- (हि. पुं.) एक प्रकार का आलूचा ।
 आलेख- (सं. पुं.) लिखावट, लेख, पत्र लिखने का कागज ।
 आलेखन- (सं. पुं.) देखें 'आलेख' ।
 आलेख्य- (सं. पुं.) चित्र, तस्वीर ।
 आलेख्यलेखा- (सं. स्त्री.) चित्रविद्या ।
 आलेप- (सं. पुं.) उपलेप, तिला ।
 आलोक- (सं. पुं.) प्रकाश, उजाला, चमक, दर्शन, दीपक, उल्लास ।
 आलोकनीय- (सं. वि.) ध्यान दिया जानेवाला, देखने योग्य ।
 आलोकित- (सं. वि.) दृष्ट, देखा हुआ ।
 आलोचक- (सं. वि.) देखनेवाला, विवेचक, आलोचना करनेवाला ।
 आलोचन- (सं. पुं.), आलोचना- (सं. स्त्री.) कलाकृति, कार्य आदि के गुण-दोष का विवेचन, दर्शन, विवेक, अन्तःकरण की एक वृत्ति ।
 आलोचनीय- (सं. वि.) आलोचना करने योग्य, देखभाल करने लायक ।
 आलोचित- (सं. वि.) देखा हुआ, समझा हुआ, आलोचना किया हुआ ।
 आलोच्य- (सं. वि.) देखें 'आलोचनीय' ।
 आलोइन- (सं. पुं.) मिश्रण, मिलावट, मन्थन, मथना ।
 आलोइन- (हि. क्रि. स.) मन्थन करना, मथना ।
 आलोड़ित- (सं. वि.) मंथित, मथा हुआ ।
 आलोल- (सं. वि.) विचलित, कंपित, हिलता हुआ ।
 आलोलित- (सं. वि.) हिलाया हुआ, घबड़ाया हुआ ।
 आलूह- (हि. पुं.) एक विख्यात वीर जो पृथ्वीराज के समय में महोदये में थे, इकतीस मात्राओं का एक छन्द ।
 आव- (हि. पुं.) आयुष्य ।
 आव-आदर- (हि. पुं.) आदर, सत्कार ।
 आवज- (हि. पुं.) एक प्रकार का ताशे के समान पुराना वाजा ।
 आवटना- (हि. पुं.) आवतन, अस्थिरता, घुमवाम, हलचल; (क्रि. स.) रींवना, औटाना ।
 आवन- (हि. पुं.) आगमन, अवाई, आना ।
 आव-भगत- (हि. स्त्री.) देखें 'आव-आदर' ।
 आवनि- (हि. स्त्री.) देखें 'आवन' ।
 आव-भाव- (हि. पुं.) आदर, सत्कार ।
 आवरक- (सं. पुं.) आच्छादन, ढाँपने का वस्त्र ।

आवरण- (सं. पुं.) आच्छादन, ढँपना, वेष्टन, लपेट, परदा, ढाल, चहार-दीवारी, आवृत्ति ।
 आवरण-पत्र- (सं. पुं.) पुस्तक इत्यादि की रक्षा के लिये इस पर लपेटा हुआ पत्र ।
 आवरण-शक्ति- (सं. स्त्री.) अज्ञान ।
 आवरित- (सं. वि.) ढँपा हुआ ।
 आवर्जित- (सं. वि.) त्यक्त, छोड़ा हुआ ।
 आवर्त- (सं. पुं.) जल का भँवर, लाज-वर्दमणि, मेघ का अधिप, सोनामकखी, घातु, चक्कर, चिन्ता, संशय; (सं. वि.) घूमा हुआ, मुड़ा हुआ ।
 आवर्तन- (सं. पुं.) चक्कर, घुमाव, घेरा, वेष्टन, दोहराव, अभ्यास, गुणन ।
 आवर्तनीय- (सं. वि.) गुणन करने योग्य, दोहराने योग्य, आवर्ती ।
 आवर्तित- (सं. वि.) अभ्यस्त, दोहराया हुआ, गुणन किया हुआ ।
 आवर्ती- (सं. वि.) वापस आनेवाला, आवर्तन करनेवाला ।
 आवलित- (सं. वि.) कुछ चंचल, मुड़ा हुआ ।
 आवली- (सं. स्त्री.) परंपरा, पंक्ति, श्रेणी, वह विधि जिससे खेत की उपज का अनुमान किया जाता है ।
 आवश्यक- (सं. वि.) नियत, जरूरी ।
 आवश्यकता- (सं. स्त्री.) प्रयोजन, अपेक्षा ।
 आवसथ- (सं. पुं.) घर, हवेली, मकान, विश्राम-स्थान ।
 आवसित- (सं. वि.) समाप्त, निर्णीत, पका हुआ ।
 आवाँ- (हि. वि.) वह गड्ढा जिसमें कोहार वर्तन पकाते हैं, पाजावा ।
 आवागमन- (सं. पुं.) आना-जाना, वार-वार जन्म लेना और मरना, जन्म-मरण का चिर आवर्तन ।
 आवागमनी- (हि. वि.) आने-जानेवाला, मरने और उत्पन्न होनेवाला ।
 आवाज- (फा. स्त्री.) ध्वनि, शब्द, पुकार, शोर, हल्ला; (मुहा.) -उठना, उठाना या अँची करना-पक्ष या विपक्ष में बोलना, -गिरना-स्वर का क्षीण या मंद होना; -देना-शब्द निकलना, -फटना-आवाज या गला बैठना, -भारी होना या भरना-गला बैठना; -मारना-जोर से पुकारना ।
 आवाजाही- (हि. स्त्री.) आवागमन, आना-जाना ।
 आवाल- (सं. पुं.) देखें 'आलवाल' ।
 आवास- (सं. पुं.) वासस्थान, रहने का स्थान, निवास ।

भावासी—(सं. वि.) रहनेवाला, वास करनेवाला ।
 भावाहन—(सं. पुं.) मन्त्र द्वारा देवता को बुलाना, निमन्त्रण, पुकार, बुलावा ।
 आविक—(सं. वि.) भेड़ संबंधी, ऊनी ।
 आविद्ध—(सं. वि.) विद्ध, भेदा हुआ, छेदा हुआ, फेंका हुआ; (पुं.) तलवार घुमाकर शत्रु को मारने की कला ।
 आविर्भाव—(सं.पुं.) प्रकाश,संचार,उत्पत्ति ।
 आविर्भूत—(सं. वि.) प्रकाशित, उत्पन्न हुआ, प्रकट किया हुआ ।
 आविल—(हिं. वि.) अष्ट, मलिन ।
 आविष्करण—(सं.पुं.) प्रकट करना, कोई प्राकृतिक या वैज्ञानिक रहस्य का खोजकर पता लगाना, वैज्ञानिक खोज, दिखावा ।
 आविष्कर्ता—(सं. पुं.) प्रकाशक, आविष्कार करनेवाला ।
 आविष्कार—(सं. पुं.) देखें 'आविष्करण' ।
 आविष्कारक—(सं.पुं.) देखें 'आविष्कर्ता' ।
 आविष्कृत—(सं. वि.) आविष्कार किया हुआ, प्रकट किया ।
 आवीत—(सं.वि.) गुथा हुआ, लटकाया हुआ ।
 आवृत—(सं.वि.) गुप्त, छिपा हुआ, घिरा हुआ, फैला हुआ, व्याप्त, लपेटा, हुआ ।
 आवृत्त—(सं. वि.) वापस आया हुआ, मागा हुआ ।
 आवृत्ति—(सं.स्त्री.) वारंवार अभ्यास करना, दोहराना, वारंवार एक ही काम करना ।
 आवृष्टि—(सं. स्त्री.) अच्छी वर्षा ।
 आवेग—(सं. पुं.) उत्साह सहित मन का वेग, उद्वेग, हड़बड़ी, धबड़ाहट ।
 आवेदक—(सं. वि.) आवेदन करनेवाला, विज्ञापक, निवेदक, प्रार्थी ।
 आवेदन—(सं. पुं.) प्रार्थना, विज्ञापन, निवेदन, नालिश ।
 आवेदनपत्र—(सं.पु.) प्रार्थना-पत्र ।
 आवेदनीय, आवेद्य—(सं. वि.) सूचना योग्य, कहने योग्य, निवेदनीय ।
 आवेदित—(सं. वि.) निवेदन किया हुआ ।
 आवेदी—(सं. वि., पुं.) सूचना देनेवाला, आज्ञाकारी, प्रार्थी ।
 आवेश—(सं. पुं.) मन की प्रेरणा, अहंकार, क्रोध, आन्तरिक यत्न, गर्व, पहुँच, मृगी का रोग, भूत-संचार, प्रेत-वाचा-संचार ।
 आवेष्ट, आवेष्टक—(सं. पुं.) घेरा ।
 आवेष्टन—(सं. पुं.) आवरण, लपेट, लपेटने या ढाँपने की वस्तु, वस्ता ।
 आवेष्टित—(सं. वि.) घिरा हुआ, लपेटा हुआ, ढका ।

आशंकनीय—(सं. वि.) शंका किये जाने योग्य, समझने योग्य ।
 आशंकमान—(सं.वि.) शंकित, डरा हुआ ।
 आशंका—(सं. स्त्री.) भय, सन्देह, चास, अविश्वास ।
 आशंकित—(सं. वि.) भयभीत, सन्देह-युक्त, डरा हुआ ।
 आशंसा—(सं. स्त्री.) अप्राप्य वस्तु पाने की इच्छा, महत्वाकांक्षा ।
 आशंसित—(सं.वि.) इच्छा किया हुआ ।
 आश—(सं. पुं.) भोजन खाना, आहार; (हिं. स्त्री.) आशा ।
 आशय—(सं. पुं.) अभिप्राय, आश्रय, आधार, इच्छा, तात्पर्य, उद्देश्य, विगव, स्थान, जगह, गड्ढा ।
 आशर—(हिं. पुं.) राक्षस, अग्नि ।
 आशब—(सं. पुं.) गुड़ का मद्य ।
 आशा—(सं. स्त्री.) दिशा, किसी पदार्थ के मिलने की इच्छा, उम्मीद, अमिलापा, तृष्णा, लालच, दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम ।
 आशाद्—(सं. पुं.) आपाद् महीना ।
 आशातीत—(सं.वि.) आशा से अधिक ।
 आशान्वित—(सं. वि.) आशायुक्त ।
 आशाप्राप्त—(सं. वि.) कृतकार्य, सफल ।
 आशाबंध—(सं. पुं.) मकड़ी का जाला, आश्वासन ।
 आशावरी—(सं.स्त्री.) संगीतकीएकरागिणी ।
 आशावह—(सं. वि.) आशाघारी ।
 आशाहीन—(सं. वि.) आशाशून्य ।
 आशीर्वाद—(हिं.पुं.) देखें 'आशीर्वाद' ।
 आशिक—(अ. वि.) इश्क या प्रेम करने-वाला, प्रेमी; —माशिक—प्रेमी-प्रेमिका ।
 आशिष—(सं. स्त्री.) आशीर्वाद आसीस, एक अलंकार जिसमें न मिले हुए पदार्थ को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है ।
 आशी—(सं. स्त्री.) सर्प का विपला दांत, सर्प का विप, आशीर्वाद; (वि.) मक्षक, खानेवाला; (हिं. वि.) इच्छुक ।
 आशीर्वचन—(सं. पुं.) देखें 'आशीर्वाद' ।
 आशीर्वाद—(सं. पुं.) मंगल-कामना-सूचक वाक्य, आशिष, दुआ ।
 आशीविप—(हिं. पुं.) सर्प, साँप ।
 आश—(सं. वि.) शीघ्र; —कवि—(सं.पुं.) वह कवि जो तत्क्षण कविता बनाता है; —फारी—(सं. वि.) शीघ्र काम करने-वाला; —कोपी—(सं. वि.) जल्दी मुद्रित होनेवाला; —क्रिया—(सं. स्त्री.) जल्दी का काम; —ग—(सं. पुं.) वायु, नूर्य,

वाण; —गामी—(सं. वि.) शीघ्र चलने-वाला, सूर्य, वायु; —तोप—(सं. पुं.) शिव; (वि.) शीघ्र प्रसन्न होनेवाला; —त्व—(सं. पुं.) शीघ्रता, जल्दी ।
 आशीच—(सं. पुं.) अपविद्यता ।
 आश्चर्य—(सं. पुं.) विस्मय, अचंभा, अनोखापन, अद्भुत रस ।
 आश्चर्यता—(सं. स्त्री.), आश्चर्यत्व—(सं. पुं.) विस्मय ।
 आश्चर्यभूत—(सं. वि.) अद्भुत, अनोखा ।
 आश्चर्यमय—(सं. वि.) आश्चर्यपूर्ण ।
 आश्चर्यित—(सं.वि.) विस्मयाकुल, चकित ।
 आश्मरिक—(सं.वि.) अश्मरी रोग संबंधी; (पुं) गुरदे में पथरी पड़ने का रोग ।
 आश्रम—(सं. पुं.) ऋषि-मुनि का वास-स्थान, तपोवन, मठ, विश्राम-स्थान, पाठशाला, ठहरने की जगह, शास्त्रीवत् चार प्रकार का धर्म विशेष, यथा-ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास; —अष्ट—(सं. वि.) जो अपने आश्रम को छोड़ बैठे हो; —वास—(सं. पुं.) मुनिजनों का तपोवन में निवास; —वातिक, —वासी—(सं. वि.) आश्रम में रहनेवाला; —स्थान (सं. पुं.) मुनिजन का निवास-स्थान ।
 आश्रमी—(सं. वि.) आश्रम या तपोवन संबंधी, आश्रम में रहनेवाला ।
 आश्रय—(सं. पुं.) अवलम्बन, सहारा, आधार, सहारा देने का पदार्थ, विषय, शरण, गृह, अविचार, संपर्क, वहाना, संबन्ध, संयोग, मूल, जड़, भरोसा, जीवनोपाय का हेतु ।
 आश्रयणीय—(सं. वि.) आसरा लेने योग्य ।
 आश्रयत्व—(सं. पुं.) आभारत्व, सहारा लेने का कार्य ।
 आश्रयभूत—(सं. वि.) सहारा लेनेवाला ।
 आश्रयी—(सं. वि.) आश्रय या सहारा लेनेवाला, शरणागत ।
 आश्रित—(सं. वि.) आश्रयप्राप्त, टिका हुआ, बशीभूत, शरणागत, सेवन, अधीन, अवलंबित ।
 आश्रुत—(सं.वि.) अच्छी तरह नुना हुआ ।
 आश्रय—(सं. वि.) सहारा देने का कार्य ।
 आश्रित—(सं.वि.) सम्बद्ध, मिला हुआ ।
 आश्लेष, आश्लेषण—(सं. पुं.) हाथिक संबन्ध, आश्लेषण, अश्लेषा मक्षक ।
 आश्लेषा—(सं. स्त्री.) अश्लेषा मक्षक ।
 आश्वत्थ—(सं. वि.) अश्वत्थ वृक्ष (पीपल) संबंधी ।
 आश्वमेधिक—(सं.वि.) अश्वमेध यज्ञ संबंधी ।

आश्वसित-(सं.वि.) आश्वसित (मरोसा) दिया हुआ ।
 आश्वस्त-(सं. वि.) आश्वसितयुक्त ।
 आश्वस-(सं.पुं.) नय-निवृत्ति, सान्त्वना ।
 आश्वसक-(सं.वि.) सान्त्वना देनेवाला ।
 आश्वसना-(सं. पुं.) देख 'आश्वस' ।
 आश्वसनीय-(सं.वि.) सान्त्वना देने योग्य ।
 आश्वसित-(सं. वि.) सान्त्वना दिया हुआ ।
 आश्वसिनी-(सं. वि.) सान्त्वना देनेवाला, प्रसन्न करनेवाला ।
 आश्विन-(सं. पुं.) वृषार का महीना, जिस महीने की पूर्णिमा को अश्विनी-नक्षत्र पड़ता है ।
 आश्विनी-(सं. स्त्री.) आश्विन मास की पूर्णिमा; (वि.) आश्विन का ।
 आषाढ़-(सं. पुं.) आषाढ़ा नक्षत्रयुक्त पूर्णमासीवाला महीना, आषाढ़ महीना ।
 आषाढ़क-(सं. पुं.) आषाढ़ मास, परास का बीज ।
 आषाढ़ा-(सं. स्त्री.) पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ।
 आषाढ़ी-(सं. स्त्री.) आषाढ़ मास की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा ।
 आसंग-(हि. अव्य.) निरन्तर, सतत; (पुं.) अनुरक्त, संबंध ।
 आसंजन-(सं. पुं.) बाँधना, धारण करना ।
 आसंजित-(सं. वि.) संबद्ध या संलग्न ।
 आस-(सं. पुं.) आसन, स्थिति, बैठका, घनुप, धूलि; (हि. स्त्री.) आशा, मरोसा, कामना, लालसा, आहार, टेक ।
 आसकृत-(हि. पुं.) आलस्य ।
 आसकती-(हि. वि.) आलसी ।
 आसक्त-(सं.वि.) लिप्त, लीन, चाहनेवाला, मुग्ध, मोहित ।
 आसक्ति-(सं. स्त्री.) अन्य विषयों को त्यागकर एक ही विषय का अवलम्बन, लगन, अनुराग, प्रेम ।
 आसति-(हि. स्त्री.) मूर्खता, सत्य ।
 आसते-(हि. अव्य.) धीरे-धीरे ।
 आसति-(सं. स्त्री.) संगम, मेल, लाभ, निकटता, न्यायमत के अनुसार दो शब्द धीरे उनके अर्थ का संबंध ।
 आसन-(सं. पुं.) स्थिति, बैठने का ढंग, बैठक, बैठने की वस्तु (यथा-कमन्धल, चट्टाई इ०), योग का ढंग विशेष, निवास, टेरा, नितम्ब, चूतड़, महावत के बैठने का हाथी का स्कन्ध, वायु के सम्मुख सेना का स्थिर रहना; (मुहा.) -बैठना-जमकर न बैठ सकना,

स्थान छूटना; -उठना-स्थान छूटना; -छोड़ना-उठकर चल देना; -जमना-एक ही आसन में जमकर बैठना; -जमाना-अडिग भाव से बैठना; -डिगना, डोलना-अपनी स्थिति का उगमगाना; -देना-आदरपूर्वक बैठना; -बाँधना-जाँघों से जकड़ना; -मारना, -लगाना-आसन जमाना ।
 आसना-(हि. क्रि. अ.) उपस्थित रहना, होना, अस्तित्व रहना ।
 आसनी-(सं. स्त्री.) छोटा आसन ।
 आसन्न-(सं. वि.) निकटस्थ, समीप, लगा या सटा हुआ ।
 आसन्नकाल-(सं. पुं.) समीप का समय, मृत्युकाल ।
 आसन्नता-(सं. स्त्री.) समीपता ।
 आसन्न-प्रसवा-(सं. स्त्री.) शीघ्र वच्चा जननेवाली स्त्री ।
 आसन्नभूत-(सं. पुं.) वर्तमान भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की पूर्णता तथा वर्तमान से उसकी समीपता विदित हो; यथा-मैंने पुस्तक उठाई है ।
 आसपास-(हि. अव्य.) समीप, इधर-उधर; (पुं.) पड़ोस ।
 आसमान-(फा. पुं.) आकाश, स्वर्ग; (मुहा.) -के तारे तोड़ना-बहुत मुश्किल और दुस्साध्य काम करना; -छूना-बहुत ऊँचा या गगनचुंबी होना; -टूटना-एकाएक कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ना; -पर चढ़ना या उड़ना-गर्वान्मत होना, बहुत बड़प्पन का प्रदर्शन करना; -पर चढ़ाना-अति प्रशंसा करना; -पर थूकना-किसी महान की निंदा करना, अपने को निन्दित करना; -फटना-देखें 'आसमान टूटना'; -सिर पर टूट पड़ना-अचानक कोई विपत्ति सिर पर आ पड़ना; -से गिरना या टपकना-(किसी चीज का) अपने आप उपस्थित होना; -से बातें करना-देखें 'आसमान छूना' ।
 आसमानी-(फा. वि.) आसमान का, आसमान संबंधी ।
 आसमुद्र-(सं. अव्य.) समुद्र पर्यन्त, समुद्र के तट तक ।
 आसय-(हि. पुं.) देखें 'आशय' ।
 आसर-(हि. पुं.) आशर, राक्षस ।
 आसरना-(हि. क्रि. स.) आश्रय लेना, सहारा लेना ।
 आसरा-(हि. पुं.) आशा, मरोसा, अव-

लम्ब, सहारा, रक्षा, शरण, साहाय्य सहायक, भरण-पोषण की आशा; (मुहा.) -ताकना (देखना)-प्रतीक्ष करना, राह देखना ।
 आसव-(सं. पुं.) फलों के रस को निचोड़कर बनाया हुआ मद्य; गुड़, य चीनी की ताजी शराब, अरिष्ट ।
 आसा-(हि. पुं.) आशा, उम्मीद, सोना चाँदी मढ़ा हुआ डंडा जिसको चोवदा उत्सव में लेकर आगे-आगे चलते हैं ।
 आसाढ़-(हि. पुं.) देखें 'आषाढ़' ।
 आसादन्न-(सं. पुं.) प्राप्ति, स्थापन ।
 आसादित-(सं. वि.) प्राप्त, संपादित लगाया हुआ ।
 आसान-(फा. वि.) सहज, सरल ।
 आसानी-(फा. स्त्री.) सरलता ।
 आसाम-(पुं.) भारत का एक राज्य ।
 आसामी-(हि. वि.) आसाम देश का; (स्त्री.) आसाम देश की भाषा; (पुं.) आसाम का निवासी ।
 आसावरी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कव्चरी, रागिणी विशेष, एक प्रकार का रेशमी वस्त्र ।
 आसिक-(हि. वि.) देखें 'आंशिक' ।
 आसिक्त-(सं. वि.) भिगाया हुआ, सींच हुआ, सिंचित ।
 आसिल-(हि. स्त्री.) देखें 'आशिष' ।
 आसिन-(हि. पुं.) आश्विन मास, ववा का महीना ।
 आसीन-(सं. वि.) उपविष्ट, बैठा हुआ विराजमान ।
 आसीर-(हि. पुं.) आशीर्वाद ।
 आसीसा-(हि. पुं.) तकिया ।
 आसु-(हि. सर्व.) इसका; (अव्य.) शीघ्र, जल्दी ।
 आसुग-(हि. पुं.) देखें 'आसुग' ।
 आसुतोख-(हि. पुं.) देखें 'आसुतोष' ।
 आसुर-(सं. वि.) असुर संबंधी, पेशाची आसुर विवाह-(सं. पुं.) वह विवाह जो कन्या के माता-पिता को शुल्क देकर किया जावे ।
 आसुरी-(सं. वि.) असुर संबंधी, राक्षसी; -माया-(स्त्री.) राक्षसों की चाल-ढाल, राक्षस की स्त्री ।
 आसुरीय-(सं. वि.) राक्षस संबंधी ।
 आसेफ-(सं. पुं.) वृक्ष को जल से थोड़ा सींचना, भिगाना ।
 आसेध-(सं. पुं.) रोक रखना ।
 आसेवित-(सं. वि.) वारंवार सेवा किया हुआ, सतत सेवित ।

आसोज—(हि. पुं.) आश्विन मास, ववार का महीना ।
 आसों—(हि. अव्य.) इस वर्ष इस साल ।
 आस्कंद—(सं. पुं.) आक्रमण, झिड़की ।
 आस्कंदन—(सं. पुं.) देखें 'आस्कंद' ।
 आस्कंदी—(सं. वि.) आक्रमण करनेवाला, झपटनेवाला ।
 आस्तर—(सं. पुं.) हाथी की झूल, विछौना, चटाई, एक अस्त्र विशेष ।
 आस्तरण—(सं. पुं.) विस्तर, विछौना, परलंग, हाथी की पीठ पर की झूल ।
 आस्तार—(सं. पुं.) विस्तार, फैलाव ।
 आस्तिक—(सं. वि.) ईश्वर और परलोक का अस्तित्व माननेवाला, धार्मिक ।
 आस्तिकता—(सं. स्त्री.) वेद, ईश्वर तथा परलोक में विश्वास ।
 आस्तिकपन—(हि. पुं.) देखें 'आस्तिकता' ।
 आस्तिक्य—(सं. पुं.) देखें 'आस्तिकता' ।
 आस्तिक—(सं. पुं.) जरत्कार मुनि के पुत्र जिन्होंने जनमेजय के सर्प-यज्ञ में तक्षक का प्राण बचाया था ।
 आस्तीर्ण—(सं. वि.) विस्तीर्ण, फैला हुआ ।
 आस्तेय—(सं. पुं.) अस्तेय, साहूकारी ।
 आस्था—(सं. स्त्री.) आलम्बन, सहारा, श्रद्धा, स्थिति, यत्न, आदर, समा ।
 आस्थान—(सं. पुं.) विश्राम-स्थान, बैठने की जगह, समा ।
 आस्थान-गृह—(सं. पुं.) समा-भवन ।
 आस्थापन—(सं. पुं.) अच्छी तरह से स्थापन ।
 आस्थापिका—(सं. स्त्री.) समा ।
 आस्थापी—(हि. स्त्री.) गीत का टेक जो दोहराया जाता है ।
 आस्थित—(सं. वि.) स्थित, प्राप्त, आश्रित, विस्तृत ।
 आस्थिति—(सं. स्त्री.) स्थिति, ठहरने का स्थान, हालत ।
 आस्पंदन—(सं. पुं.) कम्पन, कँपकँपी ।
 आस्पद—(सं. पुं.) स्थान, पद, काम, प्रतिष्ठा, प्रभुत्व, अवलंबन, सहारा, ठहरने का स्थान ।
 आस्फालन—(सं. पुं.) फटकार, फड़-फड़ाहट, दम्भ, गर्व ।
 आस्फालित—(सं. वि.) फड़फड़ाया हुआ, रगड़ा हुआ ।
 आस्फोट—(सं. पुं.) मदार का वृक्ष ।
 आस्फोटन—(सं. पुं.) कुश्ती में ताल ठोकने का शब्द, कम्पन, फड़फड़ाहट ।
 आस्पंदन—(सं. पुं.) वहना, स्वलित होना ।
 आस्य—(सं. पुं.) गूरा, गुँह, आकृति ।
 आस—(सं. पुं.) रुधिर, लोह ।

आत्माव—(सं. पुं.) क्षत, बहाव ।
 आस्वनित—(सं. वि.) शब्द किया हुआ ।
 आस्वाद—(सं. पुं.) रस, स्वाद, रस का अनुभव, मजा ।
 आस्वादक—(सं. वि.) स्वाद लेनेवाला ।
 आस्वादन—(सं. पुं.) आस्वाद लेना ।
 आस्वादनीय—(सं. वि.) चखने योग्य ।
 आस्वादित—(सं. वि.) स्वाद लिया हुआ, चखा हुआ ।
 आह—(हि. अव्य.) हाय; (स्त्री.) शोक, पीड़ा, दुःख, खेद, दीर्घ श्वास, ठंडी साँस, शोकसूचक शब्द; (मुहा.)—पड़ना—किसी को बलेश पहुँचाने का फल मिलना; —लेना—कष्ट देना, सताना ।
 आहक—(सं. पुं.) नाक सूजने का रोग ।
 आहट—(हि. स्त्री.) चलने में पैर या दूसरे अंग से उत्पन्न शब्द, पैर की खटक, खटका, वह शब्द जिससे किसी स्थान में किसी के रहने का अनुमान हो, टोह, पता; (मुहा.)—लेना—आहट पाकर सचेत रहना ।
 आहत—(सं. वि.) चोट खाया हुआ, ज्ञात, जाना हुआ, मिथ्या कहा हुआ; (पुं.) डोल, नवीन वस्त्र ।
 आहति—(सं. स्त्री.) आघात, चोट, मार-पीट, आगमन, गुणन, मर्दन ।
 आहनन—(सं. पुं.) ताड़न, मारपीट, पशुवध ।
 आहर—(सं. पुं.) उच्छ्वास, आह, ठंडी साँस ।
 आहरण—(सं. पुं.) हरना, छीनना, अपहरण, ग्रहण, छीना-छीनी, आयोजन, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ।
 आहरणीय—(सं. वि.) आयोजन करने योग्य, छीने जाने योग्य ।
 आहरन—(हि. स्त्री.) स्यूणा, लोहार या सोनार की निहाई ।
 आहरी—(हि. स्त्री.) छोटा तालाव, थाला, जलागार जिसमें बेल इत्यादि पानी पीते हैं ।
 आहर्ता—(सं. वि.) हरण करनेवाला, लानेवाला, लेनेवाला ।
 आह्ला—(हि. पुं.) पानी की बाड़ ।
 आहव—(सं. पुं.) युद्ध, लड़ाई, ललकार ।
 आहवन—(सं. पुं.) यज्ञ, हवन, होम, अच्छी तरह से हवन करना ।
 आहवनीय—(सं. पुं.) यज्ञ में जलनेवाली अग्नि; (वि.) हवन करने योग्य ।
 आहा—(हि. अव्य.) हर्ष तथा आश्चर्य-सूचक शब्द ।
 आहार—(सं. पुं.) भोजन-द्रव्य, खाने की वस्तु, भोजन, धन ।
 आहारक—(सं. वि.) लानेवाला ।

आहारपाक—(सं. पुं.) भोजन का पचना ।
 आहार-विरह—(सं. पुं.) भोजन का कष्ट, रोटी का लाला ।
 आहार-विहार—(सं. पुं.) खाना-पीना आदि शारीरिक व्यवहार, रहन-सहन ।
 आहार-शुद्धि—(सं. स्त्री.) मध्य अन्नादि का शोधन ।
 आहारार्थी—(सं. वि.) आहार के लिये भिक्षा माँगनेवाला ।
 आहारी—(सं. वि.) आहार करनेवाला, भोजन करनेवाला ।
 आहार्य—(सं. वि.) भोजन करने योग्य, व्याप्य, कृत्रिम, घनावटी, खाने योग्य, समझने योग्य, लाने योग्य, औपाननिक अग्नि, नाटक का सुन्दर धमिनय ।
 आहार्याभिनय—(सं. पुं.) नाटक का ऐसा अभिनय जिसमें कोई पात्र न कुछ कहता-सुनता है और न अंग-संचालन करता है, केवल उसकी वेप-भूषा से ही काम चल जाता है ।
 आहाव—(सं. पुं.) जल का कुंड, पात्र, अग्नि ।
 आहि—(हि. क्रि. अ.) 'आसना' क्रिया का वर्तमान काल का रूप ।
 आहिक—(सं. पुं.) केतु ग्रह ।
 आहित—(सं. वि.) रक्खा हुआ, डाला हुआ, स्थापित, रक्षित, उत्पन्न किया हुआ, अर्पण किया हुआ, धरोहर रक्खा हुआ; (पुं.) अपने स्वामी से एक साथ अधिक धन लेकर उसकी सेवा करनेवाला दास ।
 आहुत—(सं. पुं.) आतिथ्य, रात्कार, बलि, वैश्वदेव, मनुष्य यज्ञ ।
 आहुति—(सं. स्त्री.) मन्त्र द्वारा अग्नि में घृतादि फेंकना ।
 आहुती—(हि. स्त्री.) देखें 'आहुति' ।
 आहृत—(सं. वि.) बुलाया हुआ, पुकारा हुआ, निमन्त्रित ।
 आहृति—(सं. स्त्री.) पुकार, बुलाहट, घृत, तिल इत्यादि से हवन ।
 आहृत—(सं. वि.) लाया हुआ ।
 आहं—(हि. क्रि. अ.) हं, 'आसना' क्रिया का वर्तमान काल एक वचन का रूप ।
 आह्निक—(सं. पुं.) दैनिक, प्रतिदिन का ।
 आह्लाद—(सं. पुं.) आनन्द, प्रसन्नता ।
 आह्लादन—(सं. पुं.) प्रसन्न करनेवाला ।
 आह्लादित—(सं. वि.) आनन्दयुक्त, खुश ।
 आह्लादी—(सं. वि.) आनन्दकारी ।
 आह्न—(सं. पुं.) नाम, मंत्र, पुकारने का नाम, पत्र लगाकर भेजे, सौतन, बटेर आदि की गूदा करना ।
 आह्नर—(सं. वि.) बुद्धि, देहा ।

आह्वान-(सं. पुं.) निमन्त्रण, पुकार, बुलावा, देवता का निमन्त्रण, ललकार।
आह्वायक-(सं. पुं.) इत, हरकारा।

इ

इ-हिन्दी वर्णमाला का तीसरा स्वर वर्ण। इसका उच्चारण-स्थान तालु है तथा विवृत प्रयत्न है। इसका दीर्घ होता है; (पुं) इन्द्र।

इंग-(सं. पुं.) ज्ञान, इंगित, इशारा।
इंगन-(सं. पुं.) हृदय का भाव, इशारा।
इंगनी-(हि. स्त्री.) जिसको अंग्रेजी में मँगनीज कहते हैं, यह एक प्रकार का धातु का मोरचा होता है जो काँच के हरेपन को हटाने के काम में लाया जाता है।

इंगलिस्तान-(अ. पुं.) इंगलैंड।
इंगलिस्तानी-(अ. वि.) इंगलैंड का।
इंगित-(सं. वि.) अभिप्राय का प्रकाशन, संकेत, अन्वेषण, खोज, इशारा; (वि.) संकेत किया हुआ।

इंगितज्ञ-(स.पुं.) संकेत समझनेवाला।
इंगुदी-(सं. स्त्री.) हिगोट का वृक्ष, मालकैंगनी।

इंगुर-(हि. पुं.) देखें 'इंगुर'।
इंगुरोरी-(हि. स्त्री.) इंगुर रखने की डिविया, सिन्धोरा।

इंगुरोटी-(हि. स्त्री.) इंगुर या सेंदुर रखने की डिविया।

इंगुवा-(हि.पुं.) देखें 'इंगुदी'।
इंचना-(हि.क्रि.अ.) आकर्षित होना, खिचना।

इंजन-(अं. पुं.) कल, यंत्र, रेल का इंजन।
इंजीनियर-(अं. पुं.) मकान, नहर, पुल आदि बनानेवाला।

इंजीनियरिंग-(अं. पुं.) इंजीनियर का काम, यंत्र-निर्माण विद्या।

इंजील-(यू. स्त्री.) ईसाइयों की धर्म-पुरतक, बाइबिल।

इंडहर-(हि. पुं.) उड़द और चने की दाल का बना हुआ एक प्रकार का सालन।

इंदुरी-(हि. स्त्री.) गेंदुरी, कुंडली।

इंदुया-(हि. पुं.) कपड़ा लपेट कर बनाई हुई गेंदुरी जिसको माथे पर रखकर घस पर बोज ले जाते हैं।

इंति(त)साय-(अ. पुं.) रत्नार-रत्नोनी को पटवारी द्वारा लिखित नकल।

इंति(त)जाम-(अ.पुं.) प्रवचन, व्यवस्था।

इंति(त)जामी-(अ. वि.) इंतजाम कर बागा, प्रवचक।

इंति(त)जार-(अ.पुं.) प्रतीक्षा, आसरा, राह देखना।

इंदारा-(हि. पुं.) कूप, कुआँ।

इंदिया-(सं. पुं.) मत, अभिप्राय।

इंदिरा-(सं. स्त्री.) लक्ष्मी, श्री।

इंदीवर-(सं. पुं.) नील कमल।

इंदु-(सं. पुं.) चन्द्रमा, एक की संख्या, कपूर; -कर(सं.पुं)चन्द्र-किरण; -कला(सं. स्त्री.) चन्द्रमा की कला; -मणि, -रत्न-(सं. पुं.) चंद्रकांत मणि; -भ-(सं. पुं.) मृगशिरा, नक्षत्र; -मती-(सं. स्त्री.) पूणिमा, राजा अज की पत्नी;

-मुखी-(सं. स्त्री.) पद्मिनी; -वदना-(सं. स्त्री.) चन्द्रमुखी, चौदह अक्षरों का एक छन्द; -शेखर-(सं. पुं.) शिव, महादेव।

इंदुर-(सं. पुं.) मूषक, चूहा।

इंद्र-(सं. पुं.) देवराज, देवताओं के राजा, (चौदहों इन्द्रों के नाम ये हैं-इन्द्र, विश्वभुक्, विपश्चित्, विशुं, प्रभु, शिखि, मनोजव, तेजस्वी, वलिमान्व्य, त्रिदिव, सुशान्ति, सुकीर्ति, ऋतधाता और दिवस्पति, इन्द्र का घोड़ा उच्चैःश्रवा, इन्द्र का सारथी मातलि, इन्द्र का महल वैजयन्त, इन्द्र का वागीचा नन्दनवन, इन्द्र का मण्डारी-कुवेर); -गुप्त-(सं. पुं.) उशीर, खस; -गोप-(सं. पुं.) वीरवहूटी नाम का कीड़ा; -चाप-(सं. पुं.) इन्द्रधनुष; -जव-(हि. पुं.) देखें 'इंद्रयव'; -जाल-(सं. पुं.) छल, धोखा, माया, वाजीगरी; -जालिक-(सं. पुं.) वाजीगर, मायावी; -जित्-(सं. पुं.) मेघनाद, रावण का बेटा; -जीत-(हि. पुं.) देखें 'इंद्रजित्'; -जित्-(सं. पुं.) अर्जुन वृक्ष; -त्व-(सं. पुं.) इन्द्र की शक्ति; -दमन-(सं. पुं.) नदी में बाढ़ आने पर इसका किसी निर्धारित स्थान पर पहुँचना, जो एक पर्व समझा जाता है; -धनुष-(सं. पुं.) वर्षा-काल में सूर्योदय के समय आकाश में देख पड़ता हुआ सात रंगों का बना हुआ एक अर्धवृत्त; -नील-(सं. पुं.) मरकत-मणि, नीलम; -पुरी-(सं. स्त्री.) अमरावती; -प्रस्थ-(सं. पुं.) पाण्डवों का खाण्डवारण्य के मध्य में बसाया हुआ एक नगर; -यव-(सं. पुं.) कुटज का बीज, इन्द्रजी; -लोक-(सं. पुं.) अमरावती, स्वर्ग, इन्द्र का स्थान; -वंशा-(सं. स्त्री.) एक

वृत्त विशेष जिसके चार पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में वारह वर्ण रहते हैं;

-वज्रा-(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसमें चार पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में ग्यारह अक्षर होते हैं; -वधू-(सं. स्त्री.) वीरवहूटी नामक कीड़ा;

-वारुणी-(सं. स्त्री.) इन्द्रायन लता; -शत्रु-(सं. पुं.) वृत्रासुर; -सुत-(सं. पुं.) अर्जुन, वाली; -सेना-(सं. स्त्री.) नल की कन्या का नाम।

इंद्राणी-(सं. स्त्री.) इन्द्र की स्त्री, शची, दुर्गाशक्ति, छोटी इलायची, इन्द्रायन।

इंद्रायन-(हि. पुं.) एक लाल फल की लता, इनासन।

इंद्रायुध-(सं. पुं.) इन्द्र का वज्र, इन्द्र-धनुष, इन्द्रचाप।

इंद्रासन-(सं. पुं.) गुंजा, धुंधची।

इंद्रासन-(सं. पुं.) इन्द्र का सिंहासन, राजा का सिंहासन।

इंद्रिय-(सं. स्त्री.) शारीरिक शक्ति, बल, शुक, शरीर के अवयव जिनके द्वारा रूप, रस, गन्ध, शब्द तथा स्पर्श का ज्ञान होता है, ज्ञानेन्द्रिय, भिन्न-भिन्न कर्म करने के अंग, पाँच की संख्या, कर्मेन्द्रिय, गुह्य भाग; -ज-(सं. वि.) इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाला; -जित्-(सं. वि.) इन्द्रियों को वश में करनेवाला; -ज्ञान-(सं. पुं.) इन्द्रिय-जनित अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान; -दमन-(सं. पुं.) इन्द्रियों को वश करने का कार्य; -निग्रह-(सं. पुं.) देखें 'इंद्रिय-दमन'।

इंद्रियागोचर, इंद्रियातीत-(सं. वि.) अज्ञेय।

इंद्रो-(हि. पुं.) देखें 'इंद्रिय'; -जुलाव-(हि. पुं.) मूत्र लानेवाली औषधि।

इंद्रोपल-(सं. पुं.) नीले रंग का हीरा।

इंधन-(सं. पुं.) आग जलाने की लकड़ी, तृण इत्यादि।

इकांग-(हि. वि.) एक ओर का।

इकांग-(हि. वि.) अकेला, निर्जन।

इक-(हि. पुं.) एक संख्या, एक।

इकआंक-(हि. अव्य.) अवश्य, निःसंदेह।

इकइस-(हि. वि.) देखें 'इक्कीस'।

इकटक-(हि. वि.) स्थिर, अचल, टक-टकी लगाया हुआ।

इकटठा-(हि. वि.) एकत्र, मिला हुआ; (अव्य.) साथ मिलकर।

इकतरफा-(हि. वि.) एक ओर का; (अव्य.) एक तरफ से।

इकतरा-(हि. पुं.) एक दिन के बाद

आनेवाला ज्वर ।

इकताई—(हि. स्त्री.) एकता, अकेलापन ।

इकतान—(हि. वि.) सदृश, अभिन्न ।

इकतार—(हि. वि.) समान, बराबर ।

इकतारार—(हि. पुं.) सितार के समान एक ही तार का बाजा, हाथ से बुना हुआ एक प्रकार का वस्त्र ।

इकताला—(हि. वि.) देखें 'एकताला' ।

इकतालीस—(हि. वि., पुं.) चालीस और एक, यह संख्या, ४१ ।

इकतीस, इकतीस—(हि. वि., पुं.) तीस और एक (की संख्या), ३१ ।

इकपेचा—(हि. पुं.) एक प्रकार की पगड़ी ।

इकवाररगी—(हि. अव्य.) देखें 'एकवाररगी' ।

इकरार—(अ. पुं.) हाँ करना, स्वीकृति, वचन, प्रतिज्ञा; —नामा—(पुं.) प्रतिज्ञा-पत्र ।

इकलड़ा—(हि. वि.) एक ही डोरी में बँधा हुआ; (पुं.) एक लर का हार ।

इकलाई—(हि. स्त्री.) एक पाट की बनी हुई महीन वस्त्र की चादर, सारी आदि, अकेलापन ।

इकलोई—(हि. वि., स्त्री.) एक ही टुकड़े की बनी हुई (चादर आदि) ।

इकलौता—(हि. वि.) (स्त्री. इकलीती) अपने माँ-बाप का एक ही (पुत्र), अकेला, बिना भाई-बहिन का ।

इकल्ला—(हि. वि.) अकेला, इकहरा ।

इकवाई—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की निहाई ।

इकसठ—(हि. वि., पुं.) साठ और एक, ६१ ।

इकसर—(हि. वि.) अकेला; (अव्य.) अकसर, प्रायः ।

इकसार—(हि. वि.) समान, सदृश, बराबर; (क्रि. प्र.)—करना—समतल करना, बराबर करना ।

इकहत्तर—(हि. वि., पुं.) सत्तर और एक, ७१ ।

इकहरा—(हि. वि.) अकेला, एक ही टुकड़े या परत का ।

इकहाई—(हि. अव्य.) साथ-साथ, सब मिलकर, एकवारगी ।

इकांत—(हि. वि.) देखें 'एकांत' ।

इकाई—(हि. स्त्री.) गिनती में पहला अंक, दो या अधिक अंकों से बनी संख्या में पहला अंक, वह मान या माप जो नाप-जोप में काम दे; जैसे—नाज, सैर आदि इकाई—(सं. पुं.) 'इ' स्वर (से युक्त) ।

इकारांत—(सं. वि.) (अव्य) जिसका आदिपक्ष षणं 'इ' हो ।

इफैठ—(हि. वि.) इकट्ठा ।

इफौतर—(हि. वि.) एक अधिक ।

इकीता—(हि. स्त्री.) केवल एक बार

सन्तान उत्पन्न करनेवाली स्त्री ।

इकीता—(हि. पुं.) अँगुलियों में होने-वाला फोड़ा ।

इकीना—(हि. पुं.) मिश्रित अन्न ।

इकीनी—(हि. वि., स्त्री.) अभिन्न ।

इकीसा—(हि. वि.) पृथक्, अलग ।

इक्का—(हि. वि.) अकेला, अनोखा, निराला; (पुं.) कान की वाली जिसमें एक मोती रहता है, अकेला लड़नेवाला योद्धा, दुपहिया गाड़ी जिसमें एक घोड़ा जुता है, ताश का पत्ता जिसमें एक ही बूटी होती है;—डुक्का—(हि. वि.) दो-एक, अकेला-डुकेला ।

इक्कावन—(हि. वि.) देखें 'इक्कावन' ।

इक्कासी—(हि. वि.) देखें 'इक्कासी' ।

इक्की—(हि. स्त्री.) एक बूटी का ताश, इक्का ।

इक्कीस—(हि. वि., पुं.) बीस और एक, बीस और एक की संख्या, २१ ।

(मुहा.)—होना—बढ़कर हो जाना ।

इक्कानवे—(हि. वि., पुं.) नव्वे और एक (की संख्या), ९१ ।

इक्कानव—(हि. वि., पुं.) पचास और एक (की संख्या), ५१ ।

इक्कासी—(हि. वि., पुं.) अस्सी और एक, अस्सी और एक की संख्या, ८१ ।

इक्षु—(सं. पुं.) ईख, गन्ना ।

इक्षुकांडिका—(सं. स्त्री.) काकोली, काँस, मूँज ।

इक्षुकीय—(सं. वि.) ईख संबंधी ।

इक्षुपाक—(सं. पुं.) गुड़ ।

इक्षुभक्षिका—(सं. स्त्री.) ईख पेरने का कोल्हू, एक प्रकार का कीड़ा ।

इक्षु-रस—(सं. पुं.) ईख का रस ।

इक्षु-सार—(सं. पुं.) शीरा, गुड़ ।

इक्षुक्रु—(सं. पुं.) वैवस्वत मनु के पुत्र, एक सूर्यवंशी राजा का नाम ।

इक्षित्यार—(अ. पुं.) पसंद करना, ग्रहण, अधिकार, बश ।

इक्षित्यारी—(अ. वि.) इक्षित्यार संबंधी ।

इगारह—(हि. वि., पुं.) देखें 'ग्यारह' ।

इग्यारह—(हि. वि., पुं.) दस और एक, ११ ।

इच्छक—(सं. पुं.) इच्छायुक्त पुरुष; (वि.) अभिलाषी ।

इच्छना—(हि. क्रि. सं.) इच्छा या लालसा करना, चाहना ।

इच्छा—(सं. स्त्री.) वांछा, चाह, लालसा, उत्साह, अभिलाषा;—चारी—(वि.) अपनी इच्छानुसार चलनेवाला;—दान—(पुं.) मुहूर्तमंगी वस्तु का दान;—निवृत्ति—(स्त्री.) इच्छा का दमन; फल—(पुं.) गणित में फल की उत्पत्ति;—मौज्ज—

(पुं.) इच्छा के अनुसार मोजन पसन्द का खाना ।

इच्छानुगत—(सं. वि.) स्वतन्त्र, मनमाना ।

इच्छान्वित—(सं. वि.) इच्छा-युक्त ।

इच्छित—(सं. वि.) वांछित, चाहा हुआ ।

इच्छु, इच्छक—(सं. वि.) इच्छा करनेवाला, चाहनेवाला ।

इजराय—(अ. पुं.) डिगरी जारी करना ।

इजलास—(अ. पुं.) बैठना, बैठक (हाकिम या अधिकारी का), न्यायालय ।

इजहार—(अ. पुं.) जाहिर करना, प्रकट करना, बयान ।

इज्जत—(अ. स्त्री.) मान, प्रतिष्ठा, आदर;—दार—(वि.) प्रतिष्ठित; (मुहा.)—उतारना, बिगाड़ना या लेना—अपमानित करना ।

इज्य—(सं. पुं.) पूज्य, पूजनीय व्यक्ति, विष्णु, परमेश्वर ।

इज्या—(सं. स्त्री.) यज्ञ, दान, पूजा ।

इठलाना—(हि. क्रि. अ.) इतराना, गर्व के साथ चलना, स्पष्ट न बोलना, ठसक दिखलाना, टेढ़ी बात बोलना, मटकना, झगड़ा लगाना ।

इठलाई, इठलाहट—(हि. स्त्री.) इठलाने का भाव, ठसक ।

इठाई—(हि. स्त्री.) अभिलाषा, चाह, प्रीति, मित्रता ।

इड़—(सं. स्त्री.) भूमि, अन्न, वर्षाकाल ।

इड़ा—(सं. स्त्री.) पृथ्वी, भूमि, गाय, सरस्वती, शीघ्रता, स्तुति, सन्तोष, भोजन, अन्न, हवि, वाक्या, देवता, पार्वती, स्वर्ग, दक्ष प्रजापति की पुत्री, हठयोग के अनुमार वाँई और की रक्त-वाही नाड़ी ।

इत—(हि. अव्य.) इस ओर, इधर, यहाँ ।

इत-उत—(हि. अव्य.) इधर-उधर, जहाँ-तहाँ; (पुं.) छल, कपट ।

इतकाद—(अ. पुं.) विद्वान् ।

इतना—(हि. वि.) (स्त्री. इतनी) इस मात्रा का; (मुहा.) इतने में—इसी बीच या अरसे में ।

इतर—(सं. वि.) अन्य, दूसरा, अन्वेष, बाकी, नीच, साधारण; (हि. पुं.) अतर;—जन—(पुं.) सामान्य लोग, साधारण जन ।

इतराज—(अ. पुं.) विरोध, आपत्ति ।

इतराजी—(वि. वि.) विरोध करनेवाला ।

इतराना—(हि. क्रि. अ.) अविमान दिखलाना, ठसक करना, उद्वेगना ।

इतराहट—(हि. स्त्री.) अविमान, घमंड, दर्प, उद्वेग ।

इतरैतर—(सं. वि.) अविमान, उद्वेग ।

इतरेतर-योग—(सं. पुं.) परस्पर संबंध ।
 इतरेतराभाव—(सं.पुं.) अन्योन्याभाव, एक का गुण दूसरे में न होना ।
 इतरेतराथय—(सं.पुं.) तर्क में वह दोष जिसमें एक पदार्थ की सिद्धि दूसरे पदार्थ की सिद्धि पर निर्भर रहती है तथा उस पदार्थ की सिद्धि भी पहले पदार्थ की सिद्धि पर निर्भर होती है ।
 इतराहा—(हि. वि.) इठलानेवाला, इतरानेवाला, गर्वसूचक ।
 इतवार—(हि. पुं.) आदित्यवार, रविवार, एतवार ।
 इतस्ततः—(सं. अव्य.) इधर-उधर ।
 इताति—(हि. स्त्री.) अधीनता ।
 इति—(सं. अव्य.) समाप्तिसूचक अव्यय; (स्त्री.) पूर्णता, समाप्ति ।
 इतिकर्तव्य—(सं. पुं.) नियमानुसार करने योग्य कर्म, कर्तव्य ।
 इतिकर्तव्यता—(सं. स्त्री.) धर्म ।
 इतिमात्र—(सं. वि.) केवल इतना ही ।
 इतिवृत्त—(सं. पुं.) कथा, कहानी ।
 इतिहास—(सं. पुं.) प्राचीन प्रसिद्ध घटनाओं का काल-क्रम के अनुसार वर्णन, प्राचीन आख्यान ।
 इतिक—(हि. वि.) इतना ।
 इतो—(हि. वि.) इतना, इस मात्रा में ।
 इत्ता, इत्तो—(हि. वि.) देखें 'इतना' ।
 इत्यं—(सं. अव्य.) इस प्रकार, इस तरह से; -भाव—(सं.पुं.) ऐसी अवस्था; -भूत—(सं. पुं.) ऐसा बना हुआ, ऐसा ।
 इत्यमेव—(सं. वि.) ऐसा ही; (अव्य.) इस प्रकार से ।
 इत्ययं—(सं. अव्य.) इस निमित्त ।
 इत्यादि—(सं. अव्य.) इसी प्रकार, यही सब, अन्य ।
 इत्यादिक—(सं. वि.) इसी प्रकार से दूसरा ।
 इत्युक्त—(सं. वि.) ऐसा कहा हुआ ।
 इदं—(सं. सर्व.) यह ।
 इदानीं—(सं. अव्य.) अद्युना, अभी, अब ।
 इद्व—(सं. वि.) प्रदीप्त, दग्ध, जला हुआ, निर्मल ।
 इधर—(हि. अव्य.) यहाँ, इस ओर, इस दुनिया में; (मुहा.)—उधर (अव्य.)—यहाँ-यहाँ, चारों तरफ, नीचे-ऊँचे;—उधर करना—उलट-पलट करना, अन्य स्थान में रग देना, वितर-वितर करना, हटाना, टालना;—उधर हो दात-असंबद्ध वातावरण;—उधर में रहना—व्यर्थ समय गपट करना;—उधर होना—तो जाना, झूठना;—तो दुनिया उधर होना—

अनहोनी वात होना;—या उधर—इस पक्ष में या उस पक्ष में ।
 इन—(हि. सर्व.) 'इस' का बहुवचन ।
 इनकलाब—(अ. पुं.) भारी सामाजिक उलट-फेर, क्रांति;—जिंदाबाद—(पद) क्रांति चिर जीवित रहे ।
 इनकार—(अ. पुं.) अस्वीकृत करना, नाहीं करना, मुकरना ।
 इनकारी—(अ. वि.) नकारात्मक, अस्वीकृत-सूचक ।
 इनाम—(अ. पुं.) पुरस्कार ।
 इनायत—(अ. स्त्री.) कृपा, अनुग्रह ।
 इनारा—(हि. पुं.) कूप, कुआँ ।
 इनाखन—(हि. पुं.) इन्द्रायण का फल ।
 इनेगिने—(हि. वि. बहु.) अल्प, थोड़े, चुने हुए, गिने-गिनाये ।
 इन्नर—(हि. पुं.) तुरत की ब्याई हुई गाय का मसाला मिलाया हुआ दूध ।
 इन्नाहोम—(अ. पुं.) यहूदी जाति के आदि पुरुष, ईसाई धर्मानुसार एक पैगंबर ।
 इभ—(सं. पुं.) हाथी, आठ की संख्या;—राज—(पुं.) ऐरावत हाथी ।
 इमदाद—(अ. पुं.) सहायता, मदद ।
 इमदादी—(अ. वि.) मदद पानेवाला, सहायता-प्राप्त ।
 इमरती—(हि. स्त्री.) उड़द की पीठी की बनी हुई एक प्रकार की मिठाई ।
 इमली—(हि. स्त्री.) एक बड़ा वृक्ष जिसका फल और पत्तियाँ खट्टी होती हैं, (इसके फल के बीज को चियाँ कहते हैं) ।
 इमामदस्ता—(हि. पुं.) लोहे या पीतल का खरल, उलखल ।
 इमामवाड़ा—(हि. पुं.) ताजिया रखने और गाढ़ने का स्थान ।
 इमामा—(हि. पुं.) पगड़ी ।
 इमारत—(अ. स्त्री.) बड़ा पक्का मकान, महल, प्रासाद ।
 इमि—(हि. अव्य.) इस तरह से, ऐसे ।
 इम्तिहान—(अ. पुं.) परीक्षा ।
 इयत्ता—(सं. स्त्री.) इतना परिमाण, अंदाज ।
 इरसी—(हि. स्त्री.) चक्र का धुरा ।
 इरा—(सं. स्त्री.) भूमि, रात्रि, जल, अन्न, शराव, सरस्वती, कश्यप ऋषि की पत्नी ।
 इराक—(पुं.) पश्चिमी एशिया का एक मुस्लिम राज ।
 इराको—(हि. वि.) इराक संबंधी; (पुं.) इराक का निवासी ।
 इरादा—(अ. पुं.) संकल्प, इच्छा ।
 इरावती—(सं. स्त्री.) ब्रह्म देश की प्रधान नदी, एक पीया ।

इर्द-गिर्द—(अ. अव्य.) आसपास, चारों ओर
 इर्पना—(हि. स्त्री.) एषण, प्रवल इच्छा ।
 इलजाम—(अ. पुं.) अपराध, कसूर ।
 इला—(सं. स्त्री.) पृथ्वी, वाक्य, गाय, पार्वती, सरस्वती, वाणी ।
 इलाका—(अ. पुं.) जमींदारी, रियासत ।
 इलाची—(हि. पुं.) एक प्रकार का रेशम और सूत मिला हुआ वस्त्र; (स्त्री.) देखें 'इलायची' ।
 इलाज—(अ. पुं.) चिकित्सा ।
 इलाम—(हि. पुं.) सूचनापत्र, आज्ञा, हुकमनामा ।
 इलायची—(हि. स्त्री.) एला, इलाची, एक सदाबहार पौधा जिसके फल के बीज में सुगन्ध होती है, यह मसालों में पड़ती है;—दाना—(हि. पुं.) इलाची का बीज, चीनी में पाया हुआ इलायची का दाना, लाचीदाना ।
 इलावृत्त—(सं. पुं.) जम्बूद्वीप के नव खण्डों में से चौथा ।
 इल्म—(अ. पुं.) ज्ञान, शास्त्र, विद्या, जानकारी ।
 इल्मी—(हि. वि.) इल्म संबंधी, गुणी ।
 इल्लत—(अ. स्त्री.) रोग, दोष, झंझट, दुर्व्यसन; (मुहा.)—पालना—कोई झंझट, बुरी आदत आदि लगना ।
 इल्ला—(हि. पुं.) त्वचा के ऊपर निकली हुई मसे के तरह की फुस्ती, अर्बुद ।
 इव—(सं. अव्य.) सदृश, तरह, नाई, इस प्रकार, समान ।
 इशारा—(अ. पुं.) संकेत, सैन;—(रे)-बाज—(पुं.) इशारा करनेवाला, इशा (रे) बाजी—(स्त्री.) इशारा करने की क्रिया या भाव ।
 इश्क—(अ. पुं.) प्रेम, प्रणय, यौन-प्रेम;—बाज—(वि.) प्रेमी, रसिक ।
 इश्ति (श्त) हार—(अ. पुं.) विज्ञापन, सूचना ।
 इश्ति (श्त) हारी—(अ. वि.) जिसक इश्तहार निकला हो, विज्ञप्त ।
 इषिका—(सं. स्त्री.) रंगसाज की बाल की बनी हुई कूंची ।
 इषु—(सं. पुं.) बाण, तीर;—कार—(पुं.) तीर बनानेवाला;—घर—(पुं.) तीर चलानेवाला, तीरंदाज;—धि—(स्त्री.) तूण, तरकस ।
 इष्ट—(सं. वि.) अभिलषित, प्रिय, वांछित, चाहा हुआ; (पुं.) इष्ट देवता, कुलदेवता, कृपा, अधिकार, विष्णु, शुभ कर्म, मित्र ।
 इष्टक—(सं. पुं.) ईंट ।
 इष्टका—(सं. स्त्री.) ईंट ।
 इष्टकारी—(सं. वि.) हितकारी, मलाई चाहनेवाला ।

इष्टकाल—(सं. पुं.) ज्योतिष के अनुसार सन्तान के उत्पन्न होने का समय ।
 इष्टजन—(सं. पुं.) प्रिय व्यक्ति, प्रियतम ।
 इष्टतम—(सं. वि.) अतिशय प्रिय, बहुत प्यारा, प्रियतम ।
 इष्टतर—(सं. वि.) अधिक प्यारा ।
 इष्टता—(सं. स्त्री.), इष्टत्व—(सं. पुं) स्पृहणीयता, पसन्दगी ।
 इष्टदेव, इष्टदेवता—(सं. पुं.) आराध्य देवता, जो देवता बराबर पूजा जाता हो ।
 इष्टसाधन—(सं. पुं.) अमीष्ट की सिद्धि ।
 इष्टा—(सं. स्त्री.) हवन में लगाने की लकड़ी, यज्ञ-काष्ठ ।
 इष्टापत्ति—(सं. स्त्री.) इष्ट-सिद्धि, लाभ, फायदा, वांछित फल ।
 इष्टि—(सं. स्त्री.) यज्ञ, अमिलापा, इच्छा, संग्रह, निमन्त्रण, बुलावा ।
 इष्टिका—(सं. स्त्री.) ईंट ।
 इस—(हिं. सर्व.) 'यह' शब्द का रूप विशेष जो विभक्ति जुड़ने पर हो जाता है; यथा—इसका, इसको आदि ।
 इसपात—(हिं. पुं.) कड़ा और पक्का लोहा ।
 इस पार—(हिं. अव्य.) इस ओर, इस तरफ ।
 इसवगोल—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बीज जो औषध के रूप में प्रयोग होता है ।
 इसलिए—(हिं. अव्य.) इस कारण या वजह से ।
 इसायी—(हिं. वि.) देखें 'ईसाई' ।
 इसीका—(हिं. सर्व.) "यह" का सम्बन्ध कारक एकवचन रूप ।
 इसे—(हिं. सर्व.) इसको, इसके लिये ।
 इस्तिगासा—(अ. पुं.) न्याय की प्रार्थना, नालिश, अभियोग-पत्र ।
 इस्तिमरारी—(अ. वि.) चिरस्थायी; -वंदोवस्त—(पुं.) कृषि भूमि का चिर-स्थायी वंदोवस्त या व्यवस्था ।
 इस्तिरी—(हिं. स्त्री.) कपड़े की तह जमाने का धोबी या दरजी का एक उपकरण; इससे कपड़े को चिकना बनाना; (हिं. स्त्री.) स्त्री, पत्नी ।
 इस्तोफा—(अ. पुं.) त्यागपत्र ।
 इह—(हिं. अव्य.) इस स्थान पर, यहाँ, इस लोक में, इस स्थान में, इस अवस्था में ।
 इहकाल—(सं. पुं.) वर्तमान समय, यह जन्म-काल ।
 इहलोक—(सं. पुं.) यह संसार ।
 इहयां—(हिं. अव्य.) इस स्थान पर, यहाँ ।
 इहसान—(हिं. पुं.) देवें 'एहसान' ।
 इहां—(हिं. अव्य.) यहाँ, इस स्थान में ।
 इहागत—(सं. पुं.) यहाँ पर आया हुआ ।

ई

ई—हिन्दी वर्णमाला का चौथा स्वर वर्ण, यह इकार का दीर्घ रूप है । प्रत्यय जो विशेष रूप से विशेषण तथा विशेष्य बनाने में काम आता है; यथा—लक्ष्मी, गुणी, त्रिबली आदि ।
 ईगुर—(हिं. पुं.) सिन्दूर, सिगरिफ, (सौभाग्यवती स्त्रियाँ इसको अपनी मांग में भरती हैं) ।
 ईग—(हिं. अव्य.) इस ओर ।
 ईचना—(हिं. क्रि. स.) खींचना, ँट लेना, बाँधना ।
 ईंट—(हिं. स्त्री.) साँचे में गीली मिट्टी को दबाकर बनाया हुआ टुकड़ा जो दीवार आदि बनाने के काम में आता है, ताश का एक रंग;—कारी—(हिं. स्त्री.) ईंट की जोड़ाई; (मुहा.)—पत्थर—(हिं. पुं.) कुछ नहीं;—का छल्ला देना—दीवार की मजबूती के लिए ईंट जुड़वाना;—गढ़ना या पायना—ईंट बनाना;—चुनना—ईंट की जोड़ाई करना;—से ईंट बजना—मकान ढह जाना ।
 ईटा—(हिं. पुं.) देखें 'ईंट' ।
 ईडरी, ईडुरी—(हिं. स्त्री.) गेंडुरी ।
 ईडवा—(हिं. पुं.) गेंडुरी जिसको सिर पर रखकर वीर उठाते हैं ।
 ईडवी—(हिं. स्त्री.) पगड़ी ।
 ईंट—(हिं. पुं.) ईंट का टुकड़ा ।
 ईदर—(हिं. पुं.) हाल की व्याई हुई गाय या भैंस के दूध से बनी हुई मिठाई ।
 ईदुर—(हिं. पुं.) चूहा, मूसा ।
 ईधन—(हिं. पुं.) ईंधन, जलाने की लकड़ी, तृण, घास-फूस ।
 ईकार—(सं. पुं.) चतुर्थ वर्ण "इ" ।
 ईकारांत—(सं. वि.) (शब्द) जिसका आखिरी वर्ण 'ई' (ी) हो ।
 ईक्षक—(सं. पुं.) देखनेवाला मनुष्य ।
 ईक्षण—(सं. पुं.) दर्शन, देखना, आँस, चौकसी, जाँच, विचार ।
 ईक्षित—(सं. वि.) देखा हुआ, समझा हुआ ।
 ईख—(हिं. स्त्री.) रूधु, गन्ना, ऊत ।
 ईखना—(हिं. क्रि. स.) देवना ।
 ईछन—(हिं. पुं.) ईक्षण, आँस ।
 ईछना—(हिं. क्रि. स.) इच्छा करना, चाहना ।
 ईठ—(हिं. पुं.) इष्ट, मित्र ।
 ईठना—(हिं. क्र. स.) इच्छा करना ।
 ईठि—(हिं. स्त्री.) इष्टि, प्रीति, चिप्टा, यत्न ।
 ईठी—(हिं. स्त्री.) बरछी, माला ।
 ईठा—(सं. स्त्री.) स्तुति, प्रशंसा ।

ईढ़, ईड़ा—(हिं. स्त्री.) हठ ।
 ईड़ी—(हिं. वि.) हठी ।
 ईत—(हिं. स्त्री.) डाँस, वनमक्खी ।
 ईतर—(हिं. पुं.) इतरानेवाला, आत्म-श्लाघा करनेवाला ।
 ईति—(सं. स्त्री.) अगड़ा, छूत का रोग, खेती को हानि पहुँचानेवाली आपत्ति; यथा—अधिक वर्षा, वर्षा न होना, टिड्डी लगना, चूहे लगना, पक्षियों का बढ़ना तथा दूसरे राजा का आक्रमण होना, पीड़ा, कष्ट, दुःख ।
 ईयर—(अं. पुं.) आकाशीय तत्व, व्योम ।
 ईव—(अ. स्त्री.) खुशी का दिन, मुसलमानों का त्योहार;—गाह—(पुं) वह मंदान जहाँ त्योहार के दिन मुसलमान लोग एकत्रित होकर नमाज पढ़ते हैं ।
 ईवज्जुहा—(अ. स्त्री.) मुसलमानों का वकरीद त्योहार ।
 ईदुल-फितर—(अ. स्त्री.) रमजान की समाप्ति पर मनाया जानेवाला त्योहार ।
 ईद्वक्—(सं. वि.) ऐसा, इस प्रकार का ।
 ईद्वश—(सं. अव्य.) इस प्रकार, इस तरह ।
 ईप्ता—(सं. स्त्री.) अमिलापा, वांछा, इच्छा ।
 ईप्सित—(सं. वि.) वांछित, चाहा हुआ ।
 ईवीसीवी—(हिं. स्त्री.) सीसी का शब्द, सिसकार, सीत्कार ।
 ईमन—(हिं. पुं.) एक रागिणी जो रात्रि के पहिले प्रहर में गाई जाती है ।
 ईमान—(अ. पुं.) आस्तिकता, सच्चाई, नीयत;—दार—(वि.) सच्चा, विश्वसनीय;—दारी—(स्त्री.) सच्चाई; (मुहा.)—डिगना या विगड़ना—नीयत विगड़ना;—न रहना—घम भ्रष्ट होना;—ने फर्क आना—नीयत विगड़ना ।
 ईरन—(अ. पुं.) पारम का देश ।
 ईरानी—(अ. वि.) ईरान संबंधी; (पुं.) ईरान का निवासी; (स्त्री.) ईरान की नापा ।
 ईरित—(सं. वि.) प्रेषित, कहा हुआ, हटाया हुआ ।
 ईरणा—(हिं. स्त्री.) देवें 'ईर्ष्या' ।
 ईर्षा—(नं. स्त्री.) क्रोध, जह ।
 ईर्षालु—(नं. वि.) ईर्ष्या करनेवाला, दूसरे को बृद्धि देनेकर जलनेवाला, जह करनेवाला, ईर्षी ।
 ईर्षी—(नं. वि.) जह करनेवाला ।
 ईर्ष्यमाण—(नं. वि.) देवें 'ईर्ष्या' ।
 ईर्ष्या—(नं. स्त्री.) देवें 'ईर्षी' ।
 ईर्ष्यालु—(नं. वि.) देवें 'ईर्षी' ।
 ईर्ष—(नं. वि.) अफिदारुणा, योग्य,

प्रधान, बड़ा; (पुं.) स्वामी, मालिक, शिव, नेता, राजा, आर्द्रा नक्षत्र, पारा, ग्यारह की संख्या।

ईशता—(सं. स्त्री.), ईशत्व—(सं. पुं) प्रधानता, बड़ाई।

ईशान—(सं. पुं.) महादेव, शिव, प्रभु, मालिक, आर्द्रा नक्षत्र, ग्यारह की संख्या, पूरव और उत्तर के बीच की दिशा।
ईशानी—(सं. स्त्री.) दुर्गा, शमी वृक्ष।
ईशिता—(सं. स्त्री.) सब पर प्रभाव डालनेवाली शक्ति, ईश्वरत्व।

ईशित्व—(सं. पुं.) ऐश्वर्य, बड़प्पन, ईशिता।

ईश्वर—(सं. पुं.) शिव, ब्रह्मा, स्वामी, मालिक, राजा, पारा, परमेश्वर, योगमूत्र के अनुसार जो आत्मा से स्वतन्त्र रहता है, जो कालत्रय से न्यारा है और जिसको क्लेश, कर्म, विपाक तथा आशय स्पर्श नहीं कर सकता।
ईश्वरनिष्ठ—(सं. वि.) ईश्वर को माननेवाला, ईश्वरभक्त।

ईश्वर-परायण—(सं. वि.) केवल ईश्वर का सहारा लेनेवाला।

ईश्वर-प्रणिधान—(सं. पुं.) प्रगाढ़ समाधियोग, यह योगाभ्यास के पाँच नियमों में से अन्तिम है।

ईश्वरी—(सं. स्त्री.) दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सब प्रकार की शक्ति।

ईश्वरीय—(सं. वि.) ईश्वर सम्बन्धी, दिव्य, दैवी।

ईपणा—(सं. स्त्री.) त्वरा, शीघ्रता।

ईपत्—(सं. अव्य.) अल्प, किंचित, थोड़ा, कम।

ईपत्स्पृष्ट—(सं. वि.) थोड़ा छुआ हुआ, अर्धस्पर्श, य, र, ल, तथा व के लिये प्रयुक्त होता है।

ईपद्—(सं. अव्य.) देखें 'ईपत्'।

ईपदुष्ण—(सं. वि.) थोड़ा गरम, मन्दोष्ण।

ईपदृशन—(सं. पुं.) कटाक्ष, चितवन।

ईपद्वास—(सं. पुं.) मुसकुराहट, थोड़ी हँसी।

ईपना—(हि. स्त्री.) प्रवल इच्छा, एपणा।

ईस—(हि. पुं.) ईश, ईश्वर।

ईसन—(हि. स्त्री.) ईशान कोण।

ईसरगोल—(हि. पुं.) देखें 'इसवगोल'।

ईसर—(हि. पुं.) नम्रता, स्वार्थ-त्याग।

ईशग—(सं. वि.) इच्छानुसार चलनेवाला।

ईहा—(सं. स्त्री.) उद्यम, व्यवसाय, पांछ, चेष्टा, लोभ, इच्छा;—मृग—(पुं.)

रूपक नाटक का एक भेद जिसमें चार अंक होते हैं।

ईहित—(सं. वि.) अपेक्षित, चाहा हुआ।

उ

उ—हिन्दी वर्णमाला का पाँचवाँ स्वर वर्ण, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है; (अव्य.) हाँ, ठीक, भी; (पुं.) शिव, ब्रह्मा, मनुष्य।

उं—(हि. अव्य.) एक अव्यक्त उच्चारण जो मुख बन्द रहते ही किया जाता है, क्या, नहीं, अरे।

उँकौत—(हि. पुं.) वर्षाकाल में पैर में होनेवाला चर्म रोग।

उँखारी—(हि. स्त्री.) ईख (गन्ने)का खेत।

उँगनी—(हि. स्त्री.) गाड़ी के पहिये में तेल देने का काम।

उँगली—(हि. स्त्री.) अँगुलि; (मुहा.)

—उठाना—निन्दा होना;—उठाना—अपमान

करना, लांछन लगाना;—चटकाना—

उँगलियों को मर्दन के बाद चट-चट पुट-

काना;—चमकाना—उँगलियाँ दिखाकर

व्यंग्य करना;—पकड़ना—सहारा लेना;

—पकड़ते पहुँचा पकड़ना—थोड़ा-सा सहारा

पा जाने पर अधिक प्राप्ति होने के लिये

आकांक्षित होना; उँगलियाँ नचाना—उँग-

लियाँ चमकाना; उँगलियों पर नचाना—

जिस तरह का काम चाहे करा लेना;

पाँचों उँगलियाँ घी में होना—सब प्रकार

से लाभ ही लाभ होना; कानी उँगली—

हाथ या पैर की सबसे छोटी उँगली।

उँघाई—(हि. स्त्री.) निद्रा, झपकी।

उंचन—(हि. पुं.) उदंचन, खाट की

बिनावट कसने की डोरी, अदवाइन।

उंचना—(हि. क्रि.स.) उंचन कसना, अद-

वाइन कसना।

उँचाई—(हि. स्त्री.) उच्चता, विशिष्टता।

उँचान—(हि. पुं.) देखें 'उँचाई'।

उँचाना—(हि. क्रि.स.) ऊँचा करना।

उँचाव—(हि. पुं.) ऊँचाई।

उँचास—(हि. पुं.) उँचाई, ऊँचापन।

उँचीनी—(हि. स्त्री.) भावी, होनहार।

उँछ—(सं. पुं.) कृपिफल काटे जाने पर

गिरे हुए दानों को इकट्ठा करना; वृत्ति—

(स्त्री.) गिरते हुए अन्न के दानों को बटो-

रने का कार्य;—शील—(वि.) उँछ वृत्ति का।

उँजरिया—(हि. स्त्री.) उँजेली, उँजियार,

उँजेरा, प्रकाश।

उँजियार—(हि. पुं.) प्रकाश; (वि.)

प्रकाशमान।

उँजेला—(हि. पुं.) उँजेला।

उँदर—(हि. पुं.) चूहा।

उँदरी—(हि. स्त्री.) गंज, बालखोरा।

उँह—(हि. अव्य.) हाय, नहीं।

उअना—(हि. क्रि.अ.) उदय होना, निकलना।

उआना—(हि. क्रि.स.) उठाना, जगाना,

मारने को उद्यत होना।

उऋण—(हि. वि.) ऋण-निर्मुक्त, जो

ऋण दे चुका हो।

उकचन—(हि. पुं.) मुचकुन्द का पुष्प।

उकचना—(हि. क्रि.अ.) निकल जाना, अलग

होना, उखड़ना, भागना, दूर होना, परत

अलग होना।

उकटना—(हि. क्रि.स.) उखाड़ना, तोड़ना,

ढूँढ़ना, याद करना, लूटना, अपमानित

करना, भेद लेना, गाली देना।

उकटा—(हि. वि.) बारम्बार उपकार को

याद दिलानेवाला, तुच्छ, हलका;

—पुरान—(पुं.) बीती हुई बात को बार-

म्बार सविस्तार कहना।

उकठना—(हि. क्रि.अ.) शुष्क होना, सूखना।

उकठा—(हि. वि.) शुष्क, सूखा हुआ।

उकठापन—(हि. पुं.) सूख जाने की स्थिति।

उकड़—(हि. पुं.) बैठने की एक मुद्रा जिसमें

घुटने मोड़कर दोनों पैर के तलवे भूमि

पर जमाते हैं और चूतड़ एँड़ियों से

लग जाते हैं; (क्रि.प्र.)—वैठना—घुटने

ऊपर उठाकर एँड़ियों के बल वैठना।

उकताना—(हि. क्रि.अ.) उबना, घब-

ड़ाना, जल्दी करना।

उकताव—(हि. पुं.) व्यग्रता, घबड़ाहट।

उकति—(हि. स्त्री.) देखें 'उकित'।

उकलना—(हि. क्रि.अ.) तह अलग होना,

उचड़ना, अलग होना, उचड़ना।

उकलवाना—(हि. क्रि.स.) तह अलग करवाना।

उकलाई—(हि. स्त्री.) वमन, उलटी, मचली।

उकलाना—(हि. क्रि.अ.) अकुलाना, उक-

ताना, घबड़ाना, वमन करना, ओकाना।

उकवय—(हि. पुं.) उँकौत, एक प्रकार

का चर्मरोग।

उकवाँ—(हि. अव्य.) अनुमान से।

उकसना—(हि. क्रि.अ.) उछलना, फूलना,

फूटना, उमड़ना, निकलना, बाहर

निकलने की चेष्टा करना, टूटने लगना।

उकसनि—(हि. स्त्री.) उत्तेजना, उमाड़,

घबड़ाहट।

उकसवाना—(हि. क्रि.स.) निकलवा देना।

उकसाई—(हि. स्त्री.) देखें 'उकसनि'।

उकसाना—(हि. क्रि.स.) उमाड़ना, चढ़ाना,

उत्तेजित करना, हटाना, भागे चढ़ाना,

सुलगाना, मड़काना, प्रलोभन दिखलाना

छड़ना।

उकसोहा—(हि. वि.) उमरता हुआ।

उकार—(सं.पुं.) 'उ' (०) स्वर या उसका उच्चारण ।
 उकारांत—(सं. वि.) जिस शब्द के अन्त में 'उकार' हो ।
 उकालना—(हिं.क्रि.स.) देखें 'उकेलना' ।
 उकासना—(हिं.क्रि.स.) उमाड़ना, खोलना, ऊपर को फेंकना ।
 उकासी—(हिं.स्त्री.) खुल जाने की स्थिति ।
 उकिलना—(हिं.क्रि.अ.) देखें 'उकलना' ।
 उकोरना—(हिं.क्रि.स.) खोदना, उखाड़ना, नोचना ।
 उकुति—(हिं.स्त्री.) देखें 'उक्ति' ।
 उकुसना—(हिं.क्रि.स.) उजाड़ना, उधेड़ना ।
 उकेलना—(हिं.क्रि.स.) परत अलगाना, उधेड़ना, छिलका निकालना ।
 उकेला—(हिं.पुं.) रस्से की ऐंठन, परत, कम्बल का बाना ।
 उकौथ—(हिं.पुं.) देखो 'उकौत' ।
 उकौना—(हिं.पुं.) दोहद, गर्मिणी की लालसा ।
 उक्त—(सं.वि.) कहा हुआ, कथित ।
 उक्ति—(सं.स्त्री.) कथन ।
 उक्ष—(सं. वि.) वृहत्, बड़ा, शुद्ध ।
 उक्षित—(सं. वि.) सींचा हुआ, भीगा हुआ ।
 उखटना—(हिं.क्रि.अ., स.) लड़खड़ाना, ठोकर खाना, धीरे-धीरे चलना, तोड़ लेना ।
 उखड़ना—(हिं.क्रि.अ.) निर्मूल होना, जड़ से टट जाना, निकल पड़ना, अलग होना, छूटना, गिरना, विगड़ना, बंद होना, रुकना, लड़खड़ाना, हाँफना, हारना, लुप्त होना, भागना, हटना, बाहर होना, मुड़ना, कलंकित होना, अप्रसन्न होना, हताश होना, बेसुरा हो जाना, जोड़ से हटना, तितर-वितर होना; (मुहा.) उखड़ी बातें करना—उदासीनता दिखलाना; पाँव उखड़ना—पैर न जमना, ठहर न सकना ।
 उखड़वाना—(हिं.क्रि.स.) दूसरे से उखाड़ने का काम कराना ।
 उखाड़ाई—(हिं.स्त्री.) उखाड़ने का कार्य ।
 उखमज—(हिं. वि.) उष्मज, गरमी से उत्पन्न; (पुं.) उपद्रव ।
 उत्तर—(हिं. पुं.) हल की पूजा जो किसान गन्ना बोने के बाद करते हैं ।
 उत्तलना—(हिं.क्रि.अ.) सौलना, गरम होना ।
 उत्तली—(हिं. स्त्री.) उल्लूख, पत्थर या लकड़ी का वह पात्र जिसमें अन्न डालकर मूसल से कूटकर इसकी भूती अलग की जाती है, शौचली ।
 उखाड़—(हिं. पुं.) उच्छेदन, उखाड़ने का काम, लड़ाई का एक दांव, किमी गुक्ति को नष्ट करने का कार्य ।

उखाड़ना—(हिं. क्रि. स.) निर्मूल करना, छिन्न-भिन्न करना, तोड़ना, निकालना, अलग करना, उलटाना, भगाना, हटाना, टालना, नष्ट करना, भड़काना, असन्तुष्ट करना; (मुहा.) गड़े मुँह उखाड़ना—ब्रीती हुई बात को फिर से कहना ।
 उखाड़-पछाड़—(हिं. पुं.) वैमनस्य की बातें, उलट-पुलट ।
 उखाड़ू—(हिं.वि.) उखाड़नेवाला, निर्मूल करनेवाला ।
 उखारना—(हिं.क्रि.स.) देखें 'उखाड़ना' ।
 उखारी—(हिं. स्त्री.) ऊख का खेत ।
 उखालिया—(हिं. पुं.) सवरे का भोजन, कलेवा ।
 उखेड़—(हिं. पुं.) देखें 'उखाड़' ।
 उखेड़ना—(हिं.क्रि.स.) देखें 'उखाड़ना' ।
 उखेरना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'उखाड़ना' ।
 उखेलना—(हिं.क्रि.स.) खिलना, चित्र बनाना ।
 उगटना—(हिं.क्रि.अ., स.) उद्घाटन करना, उधेड़ना, उपहास करना, हँसी उड़ाना ।
 उगना—(हिं. क्रि. अ.) निकलना, प्रगट होना, देख पड़ना, अंकुरित होना, जमना, उत्पन्न होना, उपजना ।
 उगलना—(हिं.क्रि.स.) पेट में गई हुई वस्तु को मुँह से बाहर निकालना, गुप्त बात को प्रगट करना, फेरना, वान्ति करना; (मुहा.) उगल पड़ना—सहसा बाहर निकल पड़ना, एकाएक छिपी बातें कह देना; जहर उगलना—दूसरे को मर्मभेदी बात सुनाना ।
 उगलवाना—(हिं.क्रि.स.) देखें 'उगलाना' ।
 उगलना—(हिं. क्रि. स.) मुँह से बाहर निकलवाना, परिवर्तन करना, दोष स्वीकार करवाना ।
 उगवाना—(हिं.क्रि.स.) उत्पन्न कराना ।
 उगताना—(हिं.क्रि.स.) देखें 'उकसाना' ।
 उगसारना—(हिं. क्रि. स.) प्रगट करना, वर्णन करना, कहना ।
 उगाना—(हिं. क्रि. स.) उपजाना, उत्पन्न करना, उठाना, निकालना, प्रगट करना ।
 उगार—(हिं. पुं.) यूक, खखार, निचोड़-कर इकट्ठा हुआ जल ।
 उगारना—(हिं.क्रि.स.) कुएँ में जमी मिट्टी खुरवाना ।
 उगारू—(हिं. पुं.) देखें 'उगार';—दान—(हिं. पुं.) यूकने का पात्र ।
 उगाला—(हिं. पुं.) पीवे को ता जाने-वाला एक कौड़ा ।
 उगाहना—(हिं. क्रि. स.) वमूल करना, निमानों से अन्न उखाड़ि अलग-अलग

लेकर इकट्ठा करना ।
 उगाही—(हिं. स्त्री.) आयत्त या वमूल किया हुआ अन्न-घन इत्यादि ।
 उगिलना, उगिलवाना, उगिलाना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'उगलना, उगलवाना' ।
 उग्र—(सं. वि.) उत्कट, प्रचण्ड, तीव्र, निर्दय कार्य करनेवाला, गरम; (पुं.) शिव, महादेव, विष्णु, सूर्य, सहजान का वृक्ष, केरल देश, मालावार ।
 उग्रगंध—(सं.वि.पुं.) तीखी गन्धवाला, हींग ।
 उग्रगंधा—(सं. स्त्री.) वच, कुलंजन ।
 उग्रता—(सं. स्त्री.) उग्रभाव, प्रचण्डता, कड़वापन ।
 उग्रह—(हिं. पुं.) उद्धार ।
 उग्रा—(सं. स्त्री.) दुर्गा, कर्कशा स्त्री, धनिया, अजवाइन ।
 उघटना—(हिं. क्रि. स.) उद्घाटन करना, खोलना, ताल देना, उमाड़ना, हँसी उड़ाना, निन्दा करना, मली-बुरी सुनाना ।
 उघटवाना—(हिं.क्रि.स.) देखें 'उघटाना' ।
 उघटा—(हिं. वि.) उद्घाटन करनेवाला, खोलनेवाला, किये हुए उपकार को बार-बार कहने या बखानने वाला ।
 उघटाई—(हिं. स्त्री.) खोलने का कार्य ।
 उघटाना—(हिं. क्रि. स.) खोलवाना, कहलवाना ।
 उघड़ना—(हिं. क्रि. अ.) खलना, नंगा हो जाना, प्रकाशित होना, प्रगट होना, आच्छादन हटना ।
 उघड़ाना—(हिं.क्रि.स.) देखें 'उघटाना' ।
 उघझी—(हिं. स्त्री.) चामी, कुंजी ।
 उघरना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'उवड़ना' ।
 उघाई—(हिं. स्त्री.) कर का संग्रह, संग्रह किया जानवाला धन ।
 उघाड़ना—(हिं. क्रि. स.) खोलना, फणड़ा उतार देना ।
 उघाड़ा—(हिं.वि.) प्रगट, प्रकाशित, नंगा ।
 उघाना—(हिं.क्रि.स.) संग्रह करना, इकट्ठा करना, कर-संग्रह करना ।
 उघारना—(हिं.क्रि.स.) देखें 'उघाड़ना' ।
 उघारा—(हिं. वि.) सुला हुआ, नंगा ।
 उघेलना—(हिं.क्रि.स.) उघाड़ना, खोलना ।
 उघफन—(हिं. पुं.) बाड़, ओट, टेक, उठेगन, इट इत्यादि का टुकड़ा जिसको पात्र के न उलटने के लिये नीचे रगते हैं ।
 उघसना—(हिं. क्रि. अ., स.) छीनना, दवाना, के नागना, कूदना, उठना, पंजों के बल मड़ा होना, नहगना, ललचाना, अधिक मूल्य देना ।
 उचकवाना—(हिं. क्रि. स.) उचकाने का

काम दूसरे से कराना ।

उचका—(हि. अव्य.) यकायक ।

उचकाना—(हि.क्रि.अ.,स.) पंजों के बल सड़ा होकर भागना, ऊपर की ओर करना ।

उचकाना—(हि. वि.) छीननेवाला, पंजों के बल सड़ा होनेवाला ।

उचकका—(हि. पुं.) घूर्त, वंचक, ठग, वस्तु लेकर भाग जानेवाला मनुष्य ।

उचककापन—(हि.पुं.) घूर्तता, ठगी, हस्त-लाघव ।

उचटना—(हि. क्रि. अ.) अलग होना, गिरना, पलटना, कूदना, सरकना, मड़कना, विरक्त होना, अप्रसन्न होना, चिपका न रहना ।

उचटवाना—(हि.क्रि.न.) उचटने का काम दूसरे से लेना ।

उचटाई—(हि.स्त्री.) उचाटने का कार्य ।

उचटाना—(हि. क्रि. स.) वांटना, अलग करना, नोचना, छोड़ना, घुमाना, फेरना, हताश करना, मड़काना ।

उचड़ना—(हि. क्रि. अ.) सटी हुई वस्तु का अलग होना, उचटना ।

उचड़वाना—(हि. क्रि. स.) उचाड़ने का काम दूसरे से करवाना ।

उचड़ाई—(हि.स्त्री.) उचाड़ने का काम ।

उचना—(हि.क्रि.अ.,म.) ऊंचा जाना, ऊपर उठना, उचकना, ऊपर को उठाना ।

उचनि—(हि.स्त्री.) उठान, उमाड़, उचकाई ।

उचरंग—(हि.पुं.) उठनेवाला कीड़ा, फसिंगा ।

उचरना—(हि. क्रि. अ., स.) उच्चारण करना, बोलना, उचड़ना, छूटना ।

उचरवाना—(हि.क्रि.न.) देखें 'उचराना' ।

उचराई—(हि.स्त्री.) उच्चारण करने की क्रिया, उचड़ाई ।

उचराना—(हि.क्रि.स.) कहलाना, उचड़वाना ।

उचाट—(हि. वि.) अलग किया हुआ, विरक्त, श्रान्त, सिन्न, हताश, चित्त न लगना ।

उचाटन—(हि. पुं.) देखें 'उच्चाटन' ।

उचाटना—(हि.क्रि.न.) उच्चाटन करना, चित्त हटाना, भगा देना ।

उचाटो—(हि. स्त्री.) उच्चाटन, उदा-सौनता, उचाट, हटाव ।

उचाटू—(हि. वि.) उच्चाटन करनेवाला ।

उचाड़ना—(हि.क्रि.न.) चिपकी हुई वस्तु को अलग करना, उपाड़ना, नोचना ।

उचाना—(हि.क्रि.न.) ऊंचा करना, ऊपर को उठाना ।

उचार—(हि.पुं.) देखें 'उच्चारण' ।

उचारना—(हि.क्रि.न.) उच्चारण करना, बोलना, उपाड़ना, उचाड़ना ।

उचाल—(हि. पुं.) देखें 'उच्चाट' ।

उचावा—(हि. पुं.) स्वप्न में बड़बड़ ।

उचित—(सं. वि.) ठीक, योग्य, कर्तव्य, व्यवस्थित, दुस्त ।

उचेड़ना, उचेलना—(हि. क्रि. स.) देखें 'उचारना' ।

उचौहा—(हि. वि.) ऊंचा किया हुआ, उमड़ा हुआ ।

उचरंड—(सं. वि.) तीव्र ।

उच्च—(सं. वि.) उन्नत, ऊंचा, श्रेष्ठ ।

उच्च कुल—(सं. पुं.) कुलीनता ।

उच्चटा—(सं. स्त्री.) गुंजा, लाल धुँघची ।

उच्चतम—(सं. वि.) सब से ऊंचा ।

उच्चतर—(सं. वि.) दो पदार्थों में ऊंचा ।

उच्चतरु—(सं.पुं.) नारियल या वर का वृक्षा ।

उच्चता—(सं.स्त्री.) उन्नत अवस्था, ऊंचाई ।

उच्चपद—(सं.पुं.) सम्मान का पद ।

उच्चभाषी—(सं. वि.) जोर से बोलनेवाला ।

उच्चय—(सं. पुं.) इकट्ठा करने का काम, समूह, ढेर, त्रिकोण या पार्श्व भाग ।

उच्चयापचय—(सं. पुं.) बढ़ती-घटती ।

उच्चरण—(सं.पुं.) बाहर आने का कार्य, कथन, कंठ, तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ तथा नासिकासे निकलनेवाला शब्द ।

उच्चरना—(हि. क्रि. अ., स.) उच्चारण करना, बोलना ।

उच्चरित—(सं. वि.) कहा हुआ, उच्चारण किया हुआ ।

उच्चलित—(सं. वि.) ऊपर या बाहर पहुँचा हुआ ।

उच्चाट—(हि. पुं.) देखें 'उच्चाटन' ।

उच्चाटन—(सं. पुं.) मिली या संयुक्त वस्तु का पृथक् होना, उखाड़, खसोट, डर्वाडोल बनाने का काम, उत्कण्ठा, विवाद, तन्त्र के प्रयोगों में से एक जिसके करने से किसी का मन कहीं से हट जाता है ।

उच्चाटनीय—(सं.वि.) उखाड़ डालने योग्य ।

उच्चाटित—(सं. वि.) उच्चाटन किया हुआ, उखाड़ा हुआ, हटाया हुआ ।

उच्चार—(सं. पुं.) उच्चारण, कथन, विष्ठा, मल ।

उच्चारक—(सं.वि.) उच्चारण करनेवाला ।

उच्चारण—(सं. पुं.) कथन, शब्द-प्रयोग, बोलने का काम ।

उच्चारणस्थान—(सं.पुं.) कण्ठ, तालु, मूर्धा, दाँत, ओठ, नाक, जिह्वामूल और उपध्मा-आठ उच्चारण के स्थान हैं ।

उच्चारणीय—(सं. वि.) उच्चारण किया जानेवाला ।

उच्चारना—(हि. क्रि.स.) उच्चारण करना, बोलना ।

उच्चारित—(सं. वि.) उच्चारण किया हुआ, बोला या कहा हुआ ।

उच्चार्य—(सं. वि.) उच्चारण करते योग्य ।

उच्चार्यमान—(सं. वि.) उच्चारण किया जानेवाला ।

उच्चावच—(सं.वि.) ऊँच-नीच, भला-बुरा ।

उच्चैःश्रवा—(सं. पुं.) खड़े कान, सफेद रंग तथा सात मुँहवाला इंद्र का घोड़ा जो समुद्र-मंथन में निकला था; (वि.) बहिरा, कम सुननेवाला ।

उच्छन्न—(सं. वि.) नष्ट, उजड़ा हुआ ।

उच्छरना, उच्छलना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'उच्छलना' ।

उच्छलन—(सं. पुं.) उछाल ।

उच्छलित—(सं. वि.) उछाला हुआ ।

उच्छास—(हि. पुं.) देखें 'उच्छ्वास' ।

उच्छाह—(हि. पुं.) देखें 'उत्साह' ।

उच्छिति—(सं. स्त्री.) विनाश, ध्वंस ।

उच्छिन्न—(सं. वि.) जड़ सहित उखाड़ा हुआ, नष्ट, नीच ।

उच्छिष्ट—(सं. वि.) किसी के खाने से बचा हुआ, जूठा, दूसरे के व्यवहार में लाया हुआ, अपवित्र; (पुं.) जूठा पदार्थ, मधु, शहद ।

उच्छिष्टता—(सं. स्त्री.) जूठन, अपवित्रता ।

उच्छिष्ट-भोजन—(सं. पुं.) जूठन खाना ।

उच्छिष्टभोजी—(सं. वि.) दूसरे का जूठा खानेवाला ।

उच्छ्व—(हि. स्त्री.) उच्छ्वास-विकार, एक प्रकार की खाँसी जो खाते-पीते समय गले में कुछ रुक जाने से आने लगती है, सुरदहुरी ।

उच्छ्वल—(सं. वि.) क्रमहीन, निरंकुश, उद्दण्ड, नियमरहित, मनमाना काम करनेवाला, स्वेच्छाचारी ।

उच्छ्वलता—(सं. स्त्री.) उदंडता ।

उच्छेद, उच्छेदन—(सं.पुं.) उत्पाटन, उखाड़, खंडन, ध्वंस, विनाश, नोच-खसोट ।

उच्छेदनीय—(सं. वि.) उखाड़ने योग्य ।

उच्छेदित—(सं. वि.) उखाड़ा हुआ ।

उच्छेदी—(सं. वि.) उच्छेद करनेवाला ।

उच्छ्वसित—(सं. वि.) विकसित, खिला हुआ, फूला हुआ, कम्पित, हाँफता हुआ ।

उच्छ्वास—(सं. पुं.) ऊपर को खींचा हुआ श्वास, उसांस, स्फूर्ति, प्रकरण, अव्याय, ग्रन्थ का विभाग ।

उच्छ्वासित—(सं.वि.) थका हुआ, प्राण-हीन, विभक्त, असंयुक्त ।

उछंग—(हि.पुं.) उत्सङ्ग, गोद, क्रोध, हृदय ।
 उछकना—(हि. क्रि. अ.) चौंकना, विस्मित होना, चकित होना ।
 उछटना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'उचटना' ।
 उछना, उछरना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'उछलना' ।
 उछल-कूद—(हि. स्त्री.) दौड़-घूप, खेल-कूद, क्रीड़ा-कौतुक ।
 उछलना—(हि. क्रि. अ.) छलांग मारना, कूदना, फाँदना, ऊपर को कूदकर नीचे को आना, वेग से बाहर आना, आनन्द करना, आनन्द से फूलना, उमड़ना, उतरना, क्रोधसे उत्तेजित होना, तड़पना ।
 उछलवाना—(हि. क्रि. स.) उछालने का काम किसी से करवाना ।
 उछलाना—(हि. क्रि. स.) उछालने के लिये प्रवृत्त करना ।
 उछाँटना—(हि. क्रि. स.) उँचाटन करना, हटाना, भगाना ।
 उछार, उछाल—(हि. स्त्री.) कूद-फाँद, उत्तेजना, क्रोध, फेंक-फाँक, युद्ध, लड़ाई, उलटी, वमन, जल का छीटा ।
 उछारना—(हि. क्रि. स.) देखें 'उछालना' ।
 उछालना—(हि. क्रि. स.) ऊपर की ओर फेंकना, वमन करना, उचकाना, अपमानित करना ।
 उछाव—(हि. पुं.) देखें 'उत्साह' ।
 उछाव-वधाव—(हि. पुं.) धूमधाम, आनन्द ।
 उछास—(हि. पुं.) देखें 'उच्छ्वास' ।
 उछाह—(हि. पुं.) देखें 'उत्साह' ।
 उछाही—(हि. वि.) देखें 'उत्साही' ।
 उछिन्न, उछिष्ट—(हि. वि.) देखें 'उच्छिष्ट' ।
 उछीनना—(हि. क्रि. स.) उच्छिन्न करना, नोचना, उखाड़ना ।
 उछीर—(हि. पुं.) अवकाश, स्थान ।
 उछोर—(हि. अव्य.) उस ओर, उस तरफ ।
 उजट—(हि. पुं.) घास-फूस की बनी हुई शोपड़ी, उटज ।
 उजड़ना—(हि. क्रि. अ.) जड़ से उखड़ना, सूख जाना, गिरना, नष्ट होना, लुटना, जनशून्य होना, अपव्यय होना, खो जाना, उदास पड़ना, किसी काम का न होना, तुच्छ देख पड़ना, तितर-वितर होना, अपमानित होना, पति या पत्नी का मर जाना, ('बसाना' का विपर्यय) उजड़वाना—(हि. क्रि. स.) विनष्ट कराना, किसी को उजाड़ने में नियुक्त करना ।
 उजड़वाई—(हि. स्त्री.) उजाड़ने का काम ।
 उजड़ा—(हि. वि.) नष्ट, अधम ।
 उजड़ा-भुजड़ा—(हि. वि.) टूटा-फूटा, फटा-टूटा, ध्वस्त ।

उजड़ाई—(हि. स्त्री.) उजाड़ने का कार्य ।
 उजड़ड—(हि. वि.) नितान्त मूर्ख, असम्य, अशिष्ट, तुच्छ, उद्दण्ड, निरंकुश, गँवार ।
 उजड़डता—(सं. स्त्री.) उजड़डपन—(हि. पुं.) उद्दण्डता, अशिष्टता, मूर्खता, तुच्छता ।
 उजरना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'उजड़ना' ।
 उजरा—(हि. वि.) देखें 'उजड़ा, उजला' ।
 उजराई—(हि. स्त्री.) शुक्लता, निर्मलता, गोराई, सफेदी ।
 उजराना—(हि. क्रि. स.) उज्ज्वल करना ।
 उजला—(हि. वि.) उज्ज्वल, निर्मल, चमकीला, स्वच्छ, पवित्र, दीप्तिमान् ।
 उजवाना—(हि. क्रि. स.) ढालना, खाली करवाना ।
 उजागर—(हि. वि.) दीप्तिमान्, प्रकाशित, चमकीला, विल्यात, प्रसिद्ध ।
 उजाड़—(हि. वि.) नष्ट, उच्छिन्न, निर्जन, शून्यस्थान, जंगल, जनशून्य; (पुं.) उजड़ा हुआ स्थान, निर्जन स्थान; वीरान या परित्यक्त स्थान ।
 उजाड़ना—(हि. क्रि. अ.) उखाड़ना, नाश करना, निकालना, लूटना, निर्जन करना, दरिद्र बनाना, उबेड़ना, तोड़ना, टुकड़े-टुकड़े करना ।
 उजाड़ू—(हि. वि.) नाश करनेवाला, विगाड़नेवाला ।
 उजार—(हि. वि.) देखें 'उजाड़' ।
 उजारना—(हि. क्रि. स.) प्रकाशित करना, उलटना, चमकाना, निर्मल या स्वच्छ करना, रगड़ना, माँजना ।
 उजारा—(हि. वि.) देखें 'उजाला' ।
 उजारी—(हि. स्त्री.) प्रकाश, चाँदनी ।
 उजाला—(हि. पुं.) प्रकाश, दिन, चमक, महिमा, एकलौता वेदा; (वि.) प्रकाशवान्; (मुहा.)—होना—सबेरा होना ।
 उजालो—(हि. स्त्री.) चन्द्रिका, चाँदनी ।
 उजात—(हि. पुं.) उजाला, प्रकाश, चमक ।
 उजासना—(हि. क्रि. अ.) प्रकाशित होना ।
 उजियारिया—(हि. पुं.) देखें 'उजाला' ।
 उजियाना—(हि. क्रि. स.) प्रकट करना ।
 उजियार—(हि. पुं.) देखें 'उजाला' ।
 उजियारना—(हि. क्रि. स.) प्रकाशित करना, जलाना ।
 उजियारा—(हि. पुं.) उजाला, प्रकाश ।
 उजियारी—(हि. स्त्री.) देरों 'उजाली' ।
 उजियाला—(हि. वि.) देखें 'उजाला' ।
 उजीर—(हि. पुं.) बजीर, मन्त्री ।
 उजुर—(हि. पुं.) विरोध ।
 उजरा, उजला—(हि. पुं, वि.) प्रकाश, उजला, स्वच्छ ।

उज्जर—(हि. वि.) देखें 'उज्ज्वल' ।
 उज्जल—(हि. वि.) उज्ज्वल, श्वेत; (अव्य.) नदी के चढ़ाव की ओर ।
 उज्जयिनी—(सं. स्त्री.) मालवा देश की प्राचीन राजधानी ।
 उज्जीवित—(सं. वि.) पूर्णरूप से जीवित ।
 उज्जभण—(सं. पुं.) जम्हाई, उवासी ।
 उज्जन—(हि. पुं.) उज्जयिनी ।
 उज्ज्वल—(सं. वि.) दीप्तिमान्, चमकीला, विमल, खिला हुआ, सुन्दर ।
 उज्ज्वलता—(सं. स्त्री.) सफेदी, दीप्ति, चमक, सुन्दरता ।
 उज्ज्वला—(सं. स्त्री.) दीप्ति, जगती छन्द का एक भेद ।
 उज्ज्वलित—(सं. वि.) दीप्तिमान्, चमकीला ।
 उज्यारा—(हि. वि.) देखें 'उजाला' ।
 उझकना—(हि. क्रि. अ.) उचककर झाँकना, उमड़ना, ऊँचा होना, चौंकना, उछलना, कूदना, फाँदना ।
 उझकुन—(हि. पुं.) देखें 'उचकन' ।
 उझपना—(हि. क्रि. स.) खुलना ।
 उझरना—(हि. क्रि. अ. स.) ऊपर की ओर उठना या उठाना ।
 उझलना—(हि. क्रि. अ. स.) एक पात्र से दूसरे पात्र में ऊपर से गिरना, 'उड़ेलना, ढालना, बड़ना, उमड़ उठना ।
 उझाँकना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'उझकना' ।
 उझालना, उझिलना—(हि. क्रि. अ. स.) देखें 'उझलना' ।
 उझिला—(हि. स्त्री.) खेत की मिट्टी जो ऊँची जगह से निकाली गई हो ।
 उटंग—(हि. वि.) ऊँचा ही रहनेवाला जो नीचा न हो, बुरी तरह से काटा-छाँटा हुआ, पहनने में छोटा ।
 उटंगन—(हि. पुं.) एक प्रकार की घास जिसका नाग साया जाता है ।
 उटकना—(हि. क्रि. अ.) उछलना, फुदकना, अनुमान करना ।
 उटकनाटक—(हि. वि.) अद्भुत, अनोखा ।
 उटज—(सं. पुं.) पर्णमाला, शोपड़ी ।
 उटड़ा—(हि. पुं.) बैलगाड़ी के आगे बाँधा हुआ डंडा जो उसको सड़ा रराने के लिये काम में आता है ।
 उटारी—(हि. स्त्री.) लकड़ी जिस पर चारा काटा जाता है, ठोहा ।
 उटव—(हि. पुं.) मकान में लगनेवाली घरल के नीचे की लकड़ी ।
 उठंगन—(हि. पुं.) आड़, टेक, टेकनी, पत्नी ।
 उठंगना—(हि. क्रि. अ.) आश्रय लेना, टेकना, तकिया लगाना ।

उठंगल—(हि. वि.) मन्द, मूर्ख।
 उठंगायाना—(हि. क्रि. स.) उठंगने का काम दूसरे से लेना।
 उठंगाना—(हि. क्रि. स.) टेक पहुँचाना, कपाट बन्द करना।
 उठक—(हि. स्त्री.) उत्थान, उठान।
 उठगन—(हि. पुं.) देखें 'उठंगन'।
 उठना—(हि. क्रि. अ.) आरंभ होना, निकलना, उगना, बढ़ना, फट पड़ना; उभड़ आना, चढ़ना, उपस्थित होना, लेंचा पड़ना, जाना, जागना, खड़ा होना, बनना, गरम होना, यौवन प्राप्त होना, उबलना, देख पड़ना, फैलना, उतरना, खिचना, कटना, रगड़ खाना, गुथना, किराये पर दिया जाना, प्राप्त होना, सिखलाया जाना, आरोग्य होना, पकना, हिलना, स्थापित होना, पूर्ण होना, नष्ट होना, त्यागना, छोड़ना, भड़कना, कूदना, उछलना, तैयार होना, किसी प्रथा का दूर होना, व्यय होना, विकना, पगुओं में कामोद्दीपन होना; (मुहा.) उठ खड़ा होना—आसन से उठकर चलने को तैयार हो जाना; दुनिया से उठ जाना—मर जाना, चल बसना; उठती बैठक—एक प्रकार की बैठक; उठती जवानी—(हि. स्त्री.) नवयौवन; उठते-बैठते-सोते-जागते, अवेर-सवेर, बात की बात में, सर्वदा;—बैठना—साथ, मेल-जोल; उठा-उठी—दंड-बैठक (कसरत)।
 उठल्लू—(हि. वि.) एक स्नान पर न रहनेवाला, बिना प्रयोजन इधर-से उधर घूमनेवाला, आचारा; (मुहा.)—का चूल्हा—(पुं.) व्यर्थ इधर-उधर घूमनेवाला, आचारा।
 उठवाई—(हि. स्त्री.) उठने या उठाने का काम या मजदूरी।
 उठवाना—(हि. क्रि. स.) उठाने का काम दूसरे से लेना।
 उठवैया—(हि. वि.) भार उठाने में गहायता देनेवाला।
 उठारंगौर—(हि. पुं.) आँख बचाकर बन्दु चुरानेवाला, उचकता, चोर, मोपक, चाई, दुष्ट व्यक्ति, उठल्लू, आचारा।
 उठान—(हि. पुं.) उभाड़, चढाव, वृद्धि, उँनाई, धाकार, वृद्धि-अम, यौवन की अवस्था, बनाना, अभिमान, आरंभ, अम, आभिमन्यु उपरति।
 उठाना—(हि. क्रि. स.) ऊँचा करना, उभाड़ना, स्थापित करना, गड़ा करना,

चुनना, खींचना, खोलना, प्रबन्ध करना, व्यय प्राप्त करना, सहना, लगाना, चन्दा देना, रगड़ना, मिटाना, बन्द करना, फेंकना, दूर करना, उजाड़ना, जगाना, भड़काना, छेड़ना, पकड़ना, हाथ में लेना, आविष्कार करना, धारण करना, भीत आदि बनाना, अनुभव कराना, मानना; (मुहा.) उठा रखना—कसरत न छोड़ना।
 उठाव—(हि. पुं.) देखें 'उठान'।
 उठावनी—(हि. स्त्री.) उठाने का कामया पारिश्रमिक, अग्रिम दक्षिणा, विवाह के पहिले दिया जानेवाला धन।
 उठीआ—(हि. वि.) जो उठाय जा सके, उठाकर ले जाने योग्य;—चूल्हा—(पुं.) वह चूल्हा जो जहाँ चाहे वहाँ रखा जा सके;—पाखाना—(पुं.) वह पाखाना जिसमें से मैला उठाकर भंगी बाहर फेंकते हैं।
 उड़कू—(हि. वि.) खूब उड़नेवाला, शीघ्र कार्य करनेवाला, दौड़-धूप करनेवाला।
 उड़ंत—(हि. पुं.) कुस्ती का एक दावें, उड़ने या उड़ा कर फेंकने वाला।
 उड़द—(हि. पुं.) माप, एक अन्न जिसकी दाल खाई जाती है।
 उड़न—(हि. स्त्री.) उड़ान, उड़ने का कार्य;—खटोला—(हि. पुं.) उड़नेवाला खटोला, वायुयान;—गोला—(हि. पुं.) उड़नेवाला गोला;—छू—(हि. वि.) लुप्त, देख न पड़नेवाला;—वीमारी—(हि. स्त्री.) संक्रामक रोग, छूत की वीमारी।
 उड़ना—(हि. क्रि. अ.) आकाश में परो की सहायता से चलना, हवा में ऊपर की ओर उठना, शीघ्र दौड़ना, भागना, आगे-आगे चलना, नष्ट होना, समाप्त होना, उठ जाना, लुटना, मरना, माप बनना, फटना, भड़कना, फैलना, छलना, वहाना करना, फूलना, खिलना, प्राप्त होना, कुम्हलाना, हवा में फैलना, झटके से अलग होना, व्यय होना, घीमा पड़ना, फलार्ग मारना, किसी भोग्य पदार्थ का आनन्द लेना; उड़ती खबर—(स्त्री.) जनश्रुति, अफवाह; उड़ती बैठक—(स्त्री.) एक तरह की बैठक; (मुहा.) उड़ चलना—खूब वेग से जाना।
 उड़प—(हि. पुं.) नाचने की एक विधि।
 उड़पति—(हि. पुं.) उड़पति, चन्द्रमा।
 उड़री—(हि. स्त्री.) देखें 'उड़द'।
 उड़व—(हि. पुं.) एक राग जिसमें केवल पाँच स्वरों का प्रयोग होता है, ओड़व।
 उड़वाना—(हि. क्रि. अ., स.) उड़ाने का काम दूसरे से कराना।

उड़सना—(हि. क्रि. अ.) खाँसना, उठना, ठूसना, भरना, तह सिमटना, नष्ट होना।
 उड़ाकू—(हि. वि.) देखें 'उड़ाकू'।
 उड़ाऊ—(हि. वि.) पैसा बरबाद करनेवाला;—पन—(पुं.) अभितव्यय, फिजूलखर्ची।
 उड़ाक, उड़ाका, उड़ाकू—(हि. वि.) उड़नेवाला, (पुं.) वायुयान चलानेवाला।
 उड़ान—(हि. पुं.) उड़ने का कार्य, कुदान, छलांग, चढाव, कूद-फाँद, मलखंभ का एक व्यायाम, मणिवन्ध, कलाई।
 उड़ाना—(हि. क्रि. स.) उड़ने में प्रवृत्त करना, हवा में फैलाना, भोजन करना, क्रीड़ा करना, काटना, गिराना, भगा ले जाना, छिपाना, व्यय कर देना, हटाना, दूर करना, चोराना, मारना, बहलाना, काटना, नष्ट करना, भुलावा देना, गुप्त रूप से किसी विद्या को प्राप्त कर लेना।
 उड़ायक—(हि. वि.) उड़वैया, उड़ानेवाला।
 उड़ाल—(हि. पुं.) कचनार के वृक्ष का छिलका या छाल।
 उड़ास—(हि. स्त्री.) वासस्थान, रहने का स्थान, निवास-स्थान।
 उड़ासना—(हि. क्रि. स.) विछावन लपेटना, समेटना, उठाना, उजाड़ना, नष्ट करना।
 उड़िया—(हि. पुं., स्त्री.) उत्कल देश (उड़ीसा) का निवासी, वहाँ की भाषा।
 उड़ियाना—(हि. पुं.) वाइस मात्राओं का एक छन्द।
 उड़िल—(हि. पुं.) बालदार भेंड़।
 उड़ी—(हि. पुं.) मलखंभ का एक व्यायाम।
 उड़ीसा—(हि. पुं.) उत्कल देश।
 उड़ु—(सं. पुं.) नक्षत्र, तारा, पक्षी, पानी।
 उड़ुचक्र—(सं. पुं.) नक्षत्र-मण्डल।
 उड़ुप—(सं. पुं.) चन्द्रमा, चमड़े का बना हुआ पात्र, एक प्रकार का नाच, डोंगी।
 उड़ुपति—(सं. पुं.) चन्द्रमा, समुद्र, वरुण।
 उड़ुप्रिया—(सं. स्त्री.) कमलिनी।
 उड़ुराज—(सं. पुं.) चन्द्रमा।
 उड़ुस—(हि. पुं.) उड़ुंश, मत्कुण, खटमल।
 उड़ुरना, उड़ुलना—(हि. क्रि. स.) एक पात्र से दूसरे पात्र में डालना, त्यागना, छोड़ना।
 उड़ुनी—(हि. स्त्री.) खद्योत, जुगनू।
 उड़ुहीं—(हि. वि.) उड़नेवाला।
 उड़ुडयन—(सं. पुं.) उड़ान।
 उड़ुडीन—(सं. वि.) उड़ता हुआ।
 उड़ुडीयन—(सं. पुं.) उड़ुडयन, उड़ान।
 उड़ुडीयमान—(सं. वि.) उड़ता हुआ, उड़नेवाला।
 उड़क—(हि. पुं.) उड़कने से लगनेवाला ठोकर, उड़कना।

उद्कन—(हिं. स्त्री.) आश्रय, सहारा, तकिया ।
उद्कना—(हिं. क्रि. अ.) रुकना, ठोकर
लगाना, आगे न बढ़ सकना, ठहरना,
सहारा लेना, टेक लगाना ।

उद्काना—(हिं. क्रि. स.) किसी के सहारे
रखना, टेक पर ठहराना, मिडाना ।
उद्करना—(हिं. क्रि. अ.) अपने विवाहित पति
को छोड़कर चोरी से दूसरे पुरुष के साथ
निकल भागना ।

उद्दरी—(हिं. स्त्री.) उपपत्नी, रखनी, सुरैतिन ।
उद्धाना—(हिं. क्रि. स.) ओढ़ाना, ढाँपना ।
उद्धारना—(हिं. क्रि. स.) किसी की स्त्री को
भगा ले जाना ।

उद्दावनी—(हिं. स्त्री.) ओढ़नी, चादर ।
उत्क—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
उत्कंग—(हिं. वि.) ऊँचा, बड़ा, ऊँचे दरजे का ।
उत—(हिं. अव्य.) उधर, उस ओर, वहाँ ।
उतन—(हिं. अव्य.) उस ओर, उधर ।
उतना—(हिं. वि.) उस परिमाण का,
उसके बराबर; (अव्य.) उस मात्रा में ।
उतना—(हिं. पुं.) कान में पहिनुने की वाली ।
उतपन्न—(हिं. वि.) देखें 'उत्पन्न' ।
उतपात—(हिं. पुं.) देखें 'उत्पात' ।
उतमंग—(हिं. पुं.) उत्तमंग, मस्तक, माथा ।
उतरंग—(हिं. पुं.) दरवाजे के ऊपरी ढाँचे
पर रखी जानेवाली लकड़ी ।
उतरन—(हिं. स्त्री.) उतरंग, वस्त्र जो
पहिनते-पहिनते जीर्ण हो गया हो,
फटा-पुराना वस्त्र ।
उतरना—(हिं. क्रि. अ.) ऊँचे स्थान से
नीचे को आना, नदी-नाला पार करना,
निगल जाना, उपजना, प्रवेश करना,
लाँघना, आना, निकलना, कम होना,
घटना, घिस जाना, कुम्हलाना, वृद्ध होना,
समाप्त होना, स्थान छोड़ना, ठहरना,
टिकना, खिचना, संचारित होना, उधड़ना,
तैयार होना, कसाव हट जाना, ढालकर
या सँचे में बनाया जाना, उद्देग या
अशान्ति हट जाना, शरीर के जोड़ का
हटना, अवतार लेना, आदाय होना,
किसी पदार्थ को शरीर के चारों ओर
धुमाना; (मुहा.) चित्त से उतरना—
अप्रिय लगना, मूल जाना; चेहरा उत-
रना—मुख मलिन होना, उदास होना;
उतर पड़ना—किसी काम में तन-मन से
लग जाना ।
उतरवाना—(हिं. क्रि. स.) उतारने का
काम किसी दूसरे से कराना ।
उतरवा—(हिं. वि.) उत्तर संबंधी, उत्तरी ।
उतरा—(हिं. वि.) अपयोग्य, फटा हुआ ।

उतराई—(हिं. स्त्री.) नीचे जाने का काम,
नदी पार करने का कर ।

उतराना—(हिं. क्रि. अ., स.) नीचे से
ऊपर को आना, उतारने का काम दूसरे
से कराना, उतरवाना ।

उतलाना—(हिं. क्रि. अ.) आतुर होना,
जल्दी मचाना, हड़बड़ी करना ।

उतल्ला—(हिं. वि.) देखें 'उतावला' ।

उतान—(हिं. वि., अव्य.) अपनी पीठ जमीन
में लगाये हुए, उलटा, आँवा, चित ।

उतायल—(हिं. अव्य.) जल्दी-जल्दी, शीघ्र ।

उतायली—(हिं. स्त्री.) देखें 'उतावली' ।

उतार—(हिं. पुं.) ऊपर से नीचे जाने का
कार्य, घटाव, कमी, मूल्य का कम होना,
व्यय की कमी, नाश, विप उतारने की
औषधि, उतरन योग्य स्थान, किसी
पदार्थ की मोटाई का क्रम से कम होना,
समुद्र का माटा, पानी में हलकर पार
करने का स्थान, एक टोटका, न्योछावर,
अनुसरण, उतारन, प्रतिलेख ।

उतार-चढ़ाव—(हिं. पुं.) घटती-बढ़ती,
भलाई-बुराई ।

उतारन—(हिं. पुं.) पहिना हुआ वस्त्र
जो पुराना हो गया हो, न्योछावर,
उतारा, तुच्छ पदार्थ ।

उतारना—(हिं. क्रि. स.) ऊपर से नीचे को
लाना, लिखना, प्रतिरूप बनाना, चित्र
खींचना, छोड़ना, ठहराना, धुमाना,
उधड़ना, उपजाना, घटाना, अलग
करना, अलगाना, टिकाना, तौलना, नदी
पार ले जाना, धुसाना, निकालना,
न्योछावर करना, निगल जाना, स्थान
से हटाना, विगाड़ना, रगड़ना, घसना,
लूटना, ढीला करना, इकट्ठा करना,
भरना, भेजना, अर्क खींचना, नदी पार
ले जाना; (मुहा.) आरती उतारना—
पूजा करना, अत्यधिक आदर करना ।

उतारा—(हिं. पुं.) प्रेत-वाधा या संताप के
निवारणार्थ किया जानवाला टोना-
टोटका; कुछ पदार्थ किसी के शरीर के
चारों ओर धुमाकर चौराहे या नदी के
किनारे ले जाकर रखना, संस्थान, पड़ाव,
नदी पार करने का स्थान, प्रतिलेख,
निष्कर भूमि; (वि.) उतारा हुआ ।

उताह—(हिं. वि.) उतरनेवाला, उगत ।

उतावल—(हिं. वि., अव्य.) व्यग्र, बैचैनी से,
उतायल, शीघ्र, शीघ्रता से ।

उतावला—(हिं. वि.) जल्दी करनेवाला,
व्यग्र, घबड़ाया हुआ ।

उतायली—(हिं. स्त्री.) शीघ्रता, जल्दी,

व्यग्रता, चपलता ।

उताहल—(हिं. अव्य.) जल्दी से ।

उतृण—(हिं. वि.) उक्तृण, ऋणमुक्त,
उपकार का बदला चुकानेवाला ।

उतै—(हिं. अव्य.) उधर, वहाँ पर ।

उत्कंठ—(सं. वि.) ऊपर उठी हुई गरदन-
वाला, उत्कंठित ।

उत्कंठा—(सं. स्त्री.) उत्सुकता, तीव्र
अभिलाषा, शीघ्रता से किसी कार्य करने
की तीव्र इच्छा ।

उत्कंठित—(सं. वि.) उत्सुक, उद्विग्न,
चिन्ता में पड़ा हुआ ।

उत्कंठिता—(सं. स्त्री.) वह नायिका जो
अपने प्रिय के संकेत-स्थान पर न आने
पर दुःखी होती है ।

उत्कंप—(सं. पुं.) कम्प, धरदराहट ।

उत्कंपी—(सं. वि.) काँपनेवाला, शकारा
खानेवाला ।

उत्कट—(सं. वि.) तीव्र, व्यग्र, मतवाला,
अधिक, श्रेष्ठ, विपम, कठिन, धृष्ट, विकट ।

उत्कटा—(सं. स्त्री.) सफेद धुंधली ।

उत्कर्ष—(सं. पुं.) श्रेष्ठता, बड़ाई, वृद्धि,
प्रशंसा, अधिकता, अभिमान, समृद्धि ।

उत्कर्षक—(सं. वि.) उत्कर्ष करनेवाला,
उन्नति करनेवाला ।

उत्कर्षण—(सं. पुं.) ऊपर को खिंचाव, उत्कर्ष ।

उत्कर्षित—(सं. वि.) उत्कर्ष-युक्त ।

उत्कल—(सं. पुं.) उड़ीसा प्रदेश ।

उत्कलित—(सं. वि.) खिला हुआ, प्रसन्न,
उत्सुक, विकसित ।

उत्का—(हिं. स्त्री.) उत्कंठिता ।

उत्कोर्ण—(सं. वि.) लगाया हुआ, लिरा
हुआ, खोदा हुआ ।

उत्कोत्तन—(सं. पुं.) घोपपा, प्रचौर, प्रशंसा ।

उत्कृण—(सं. पुं.) मत्स्य, गटमाल, जूँ ।

उत्कृत—(सं. वि.) काटा हुआ, रोदा हुआ ।

उत्कृति—(सं. स्त्री.) छत्तीस अक्षरों का
एक छन्द ।

उत्कृष्ट—(सं. वि.) श्रेष्ठ, उत्तम, उँगे
पर का, खींचा हुआ ।

उत्कृष्टता—(सं. स्त्री.) श्रेष्ठता, उत्कृष्टता ।

उत्कोच—(सं. पुं.) उपाय, धूल ।

उत्कोचक—(सं. वि.) धूल देनेवाला ।

उत्कम—(सं. पुं.) व्यतिक्रम, विपरित नाय ।

उत्कमत—(सं. वि.) उमड़ा हुआ, रोंगा
हुआ, चला गया, गन ।

उत्कमति—(सं. स्त्री.) उत्कमन, उमड़ा,
आगे बढ़ने की स्थिति ।

उत्कमन—(सं. पुं.) उमड़ना, उमड़ना-पुनः ।

उत्करोम—(सं. पुं.) चित्कावट, कोपकाम ।

उत्क्षिप्त-(सं. वि.) उछाला हुआ, हटाया हुआ।
 उत्खनन-(सं. पुं.) खोदने का काम।
 उत्खानता-(सं. पुं.) खोदनेवाला।
 उत्तंग-(हि. वि.) ऊँचा।
 उत्तम-(सं. पुं.) निवृत्ति, अवलम्ब, सहारा।
 उत्तमिष्ठ-(सं. वि.) रोका हुआ, पकड़ा हुआ।
 उत्तंस-(सं. पुं.) कान का एक आभूषण।
 उत्त-(सं. पुं.) आश्चर्य, सन्देह।
 उत्तप्त-(सं. वि.) तपा हुआ, गरम, सन्तप्त, चिन्तित, दुःखी।
 उत्तम-(सं. वि.) उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, बढ़िया।
 उत्तमतया-(सं. अव्य.) मली-माँति, धच्छी तरह से।
 उत्तमता-(सं. स्त्री.) उत्कृष्टता, श्रेष्ठता, बढ़ाई, मलाई।
 उत्तमपद-(सं. पुं.) ऊँचा स्थान या पद।
 उत्तम पुरुष-(सं. पुं.) श्रेष्ठ मनुष्य, व्याकरण में वह सर्वनाम जो बोलनेवाले पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है।
 उत्तमर्ण-(सं. पुं.) ऋणदाता, ऋण देनेवाला, महाजन।
 उत्तमांग-(सं. पुं.) मस्तक, सिर, मुख।
 उत्तमा-(सं. स्त्री.) वह नायिका जो प्रियतम को सर्वदा हितकारिणी रहती है।
 उत्तमाधम-(सं. वि.) उच्च-नीच, मला-धुरा।
 उत्तमोत्तम-(सं. वि.) अच्छा से अच्छा।
 उत्तर-(सं. पुं.) दक्षिण की उलटी दिशा, प्रतिवाक्य, ऊपरी तल, मिली हुई वस्तु का अन्तिम भाग, बढ़ाई, बदला, एक प्रकार का गीत; (वि.) ऊँचा, बड़ा, प्रधान, उत्तर का, वायाँ, पिछला, ऊपर का, वाद का; (अव्य.) पीछे, वाद में।
 उत्तररामचरित-(सं. पुं.) कवि भवभूति रचित प्राचीन संस्कृत महाकाव्य।
 उत्तरकांड-(सं. पुं.) रामायण का शेषांश।
 उत्तरकाय-(सं. पुं.) शरीर का ऊपरी भाग।
 उत्तरकाल-(सं. पुं.) भविष्य काल।
 उत्तर कोशल-(सं. पुं.) अयोध्या प्रदेश।
 उत्तर क्रिया-(सं. स्त्री.) उत्तर काल का कार्य, अन्योपक्रिया।
 उत्तरण-(सं. पुं.) नदी के पार जाना, उतराई, पार उतरना।
 उत्तरदाता-(सं. पुं.) जिसको किसी कार्य के विगड़ने-थनने पर मले-धुरे का उत्तर देना पड़े, जिम्मेदार।
 उत्तरदायक-(सं. वि.) प्रत्युत्तरदाता, प्रश्न का उत्तर देनेवाला।
 उत्तरदायिन्-(सं. पुं.) भारवाहिता, जिम्मेदारी।

उत्तरदायी-(सं. वि.) भारवाहक, जिम्मेदार।
 उत्तरपक्ष-(सं. पुं.) शास्त्रार्थ में विचार पक्ष जो पूर्वपक्ष के सिद्धान्त को काट डालता है, कृष्णपक्ष।
 उत्तरपट-(सं. पुं.) उपरना, ओढ़ना।
 उत्तरपथ-(सं. पुं.) उत्तरीय मार्ग, देवयान।
 उत्तरपद-(सं. पुं.) किसी समास का अंतिम पद।
 उत्तर-प्रत्युत्तर-(सं. पुं.) वाद-विवाद, झगड़ा, सवाल-जवाब।
 उत्तरभोमांसा-(सं. पुं.) वेदान्तदर्शन, ब्रह्मसूत्र।
 उत्तरवादी-(सं. वि.) प्रतिवादी।
 उत्तरसाधक-(सं. वि.) वचे हुए काम को पूरा करनेवाला, सहायक।
 उत्तरा-(सं. स्त्री.) विराटराज की कन्या जिसका विवाह अभिमन्यु से हुआ था एक नक्षत्र, उत्तर दिशा।
 उत्तराखंड-(सं. पुं.) हिमालय पर्वत के पास का उत्तरीय भाग।
 उत्तराधिकार-(सं. पुं.) सम्पत्ति के पूर्व स्वामी की मृत्यु पर उसकी संपत्ति का हक या क्रमिक स्वत्व, वपौती।
 उत्तराधिकारी-(सं. पुं.) सम्पत्ति के पूर्वस्वामी के मरने पर जो इसका अधिकारी हो, वारिस।
 उत्तराफाल्गुनी-(सं. स्त्री.) वारहवाँ नक्षत्र।
 उत्तराभाद्रपद-(सं. पुं.) छव्वीसवाँ नक्षत्र।
 उत्तरभास-(सं. पुं.) दृष्ट उत्तर, झूठा या अंधवंड उत्तर।
 उत्तरायण-(सं. पुं.) सूर्य का उत्तर दिशा में गमन, मकर संक्रान्ति से छः महीने तक का समय।
 उत्तरायणी-(सं. स्त्री.) संगीत में मूर्छना का एक भेद।
 उत्तरार्ध-(सं. पुं.) पीछे का भाग, शेषार्ध।
 उत्तरापदा-(सं. स्त्री.) इक्कीसवाँ नक्षत्र।
 उत्तरीय-(सं. पुं.) उपरना, ओढ़नी, चहर; (वि.) उत्तर दिशा सम्बन्धी।
 उत्तरीयक-(सं. पुं.) उत्तरीय।
 उत्तरोत्तर-(सं. वि.) एक के बाद दूसरा, अधिक से अधिक; (अव्य.) क्रम-क्रम से, धीरे-धीरे।
 उत्ता-(हि. वि.) देखें 'उतना'।
 उत्तान-(सं. वि.) मुँह ऊपर किया हुआ, चित, सीधा फैला हुआ, खुला हुआ।
 उत्तानपाद-(सं. पुं.) स्वयंभू मनु के पुत्र और ध्रुव के पिता।
 उत्ताप-(सं. पुं.) उष्णता, गरमी, तपन,

दुःख, चिन्ता, उत्तेजना, शोक, चेष्टा, प्रयत्न।
 उत्तापन-(सं. पुं.) गरम करने का काम।
 उत्तापित-(सं. वि.) तपाया हुआ, गरम किया हुआ, दुःख पाया हुआ।
 उत्तापी-(सं. वि.) उत्तापयुक्त।
 उत्तारक-(सं. वि.) पार लगानेवाला।
 उत्ताल-(सं. वि.) श्रेष्ठ, उत्कट, भारी, तीव्र, कठिन।
 उत्तीर्ण-(सं. वि.) उतरा हुआ, पार गया हुआ, निकला हुआ, लौटा हुआ, उपस्थित, कृतकार्य, परीक्षा में सफल, मुक्त, छूटा हुआ।
 उत्तुंग-(सं. वि.) बहुत ऊँचा।
 उत्तुंगता-(सं. स्त्री.) ऊँचाई।
 उत्तु-(हि. पुं.) चुनन, कपड़े में चुनन तथा बेल-बूटा काटने का काम।
 उत्तुगर-(फा. पुं.) कपड़े में चुनन डालनेवाला।
 उत्तेजक-(सं. वि.) प्रोत्साहक, उसकानेवाला, भड़कानेवाला।
 उत्तेजन-(सं. पुं.), उत्तेजना-(सं. स्त्री.) प्रोत्साहन, प्रेरणा, भड़काव, बढ़ावा, धमकी, तीव्र करने का काम; -जनक-(वि.) उत्तेजना देनेवाला।
 उत्तेजित-(सं. वि.) प्रेरित, उमाड़ा हुआ, भड़काया हुआ।
 उत्तोलन-(सं. पुं.) उठाना, चढ़ाना, तौलना।
 उत्तोलित-(सं. वि.) उठाया हुआ, चढ़ाया हुआ।
 उत्त्यवना-(हि. क्रि. स.) आरंभ करना, उठाना, लगाना।
 उत्त्यान-(सं. पुं.) ऊँचा होने की स्थिति, उद्यम, उन्नति, उठाव, निकास, युद्ध, त्याग, सीमा; -एकादशी-(स्त्री.) कार्तिक शुक्ला एकादशी; (नये गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है।)
 उत्त्यापक-(सं. वि.) उत्तेजक, उमाड़नेवाला।
 उत्त्यानि-(हि. स्त्री.) आरम्भ।
 उत्त्यापन-(सं. पुं.) उठान, भड़काव, प्रवोधन, हिलाना, जगाना, गणित के प्रश्न का उत्तर निकालना।
 उत्त्यापित-(सं. वि.) प्रेरित, प्रवोधित, उठाया हुआ, उमाड़ा हुआ।
 उत्त्यित-(सं. वि.) उपजा हुआ, निकला हुआ, फैला हुआ।
 उत्त्यतन-(सं. पुं.) उत्त्यान, उदय, उत्पत्ति।
 उत्त्यत्ति-(सं. स्त्री.) उद्भव, जन्म, उपज, आरम्भ, सृष्टि, लाभ।
 उत्त्यन्न-(सं. वि.) जात, जन्मा हुआ, प्राप्त, पाया हुआ।
 उत्त्यल-(सं. पुं.) पत्र, सरसिज, कमल।

उत्पाट-(सं. पुं.) उत्पाटन, उखाड़ना।
 उत्पाटन-(सं. पुं.) उन्मूलन, उखाड़।
 उत्पाटित-(सं. वि.) उखाड़ा हुआ।
 उत्पात-(सं. पुं.) अशुभसूचक दैवी
 बुधटना, उपद्रव, उड़ान, उछाल, हल-
 चल; -क्रेतु-(सं. पुं.) उल्कापात।
 उत्पाती-(सं. वि.) उपद्रव करनेवाला,
 ऊधम मचानेवाला।
 उत्पादक-(सं. वि.) उत्पन्न करनेवाला,
 पैदा करनेवाला।
 उत्पादन-(सं. पुं.) उत्पन्न करना, पैदा
 करना, उपजाना।
 उत्पादित-(सं. वि.) उत्पन्न किया हुआ।
 उत्पीड़-(सं. पुं.) मदिरा का झग, फेन,
 बाधा, कष्ट।
 उत्पीड़क-(सं. वि.) सतानेवाला।
 उत्पीड़न-(सं. पुं.) उत्तेजना, भड़काव,
 प्रवर्तन, अधिकता, बढ़ती, उपद्रव।
 उत्प्रेक्षण-(सं. पुं.) ऊर्ध्वदृष्टि, संभावना।
 उत्प्रेक्षा-(सं. स्त्री.) उपेक्षा, आरोप,
 उलटा विचार, एक काव्यालंकार जिसमें
 प्रस्तुत वस्तु में अन्य प्रकार की संभावना
 की जाती है।
 उत्प्रेक्षित-(सं. वि.) सदृश किया हुआ,
 मिलाया हुआ।
 उत्प्रेक्षोपमा-(सं. स्त्री.) वह अलंकार
 जिसमें किसी एक वस्तु के गुण का अनेक
 वस्तुओं में पाया जाना वर्णन किया जाता है।
 उत्प्लवन-(सं. पुं.) उछल-कूद।
 उत्फुल्ल-(सं. वि.) प्रफुल्ल, खिला हुआ,
 उतान, चित।
 उत्संग-(सं. पुं.) क्रीड़, अंक, गोद,
 पहाड़ की चोटी, ऊपरी भाग, बीच
 का भाग, अटारी, संगम, मिलाप,
 आलिंगन, विवाह, गर्भ।
 उत्स-(हि. पुं.) स्रोत, सीता।
 उत्सन्न-(सं. वि.) उखड़ा हुआ, नष्ट, बढ़ा हुआ।
 उत्सर्ग-(सं. पुं.) त्याग, दान, न्याय, समाप्ति।
 उत्सर्गित-(सं. वि.) उत्सर्ग किया हुआ।
 उत्सर्गी-(सं. वि.) त्यागी, त्याग करनेवाला;
 -कृत-(वि.) उत्सर्गित।
 उत्सर्जन-(सं. पुं.) दान।
 उत्सर्पण-(सं. पुं.) ऊर्ध्व गमन, चढ़ाव,
 उल्लंघन, त्याग, दान।
 उत्सर्पिणी-(सं. स्त्री.) जैनमत के
 अनुसार काल का वह विभाग जिसमें
 जीवों की आत्मा, शरीर, सम्पत्ति, सुख
 आदि की क्रम-क्रम से वृद्धि होती है।
 उत्सर्गो-(सं. वि.) ऊर्ध्वगामी, ऊपर की
 चढ़ता हुआ।

उत्सव-(सं. पुं.) आनन्दजनक व्यापार,
 आनन्द, अभ्युदय, उन्नति, पर्व, त्योहार।
 उत्सवशाला-(सं. स्त्री.) उत्सव-भवन।
 उत्सादक-(सं. वि.) नाश करनेवाला।
 उत्सादन-(सं. पुं.) विनाश, नाश करना।
 उत्सादित-(सं. वि.) विनष्ट।
 उत्सादी-(हि. वि.) नाश करनेवाला।
 उत्साह-(सं. पुं.) उद्यम, हर्ष, कल्याण,
 उमंग, वीर रस का स्थायी भाव।
 उत्साही-(सं. वि.) उत्साह रखनेवाला।
 उत्सुक-(सं. वि.) उत्कण्ठित, इच्छुक,
 चाहनेवाला, व्याकुल।
 उत्सुकता-(सं. स्त्री.) व्याकुलता, प्यार,
 पछतावा, व्यग्रता।
 उत्सृष्ट-(सं. वि.) छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ।
 उत्सृक-(सं. पुं.) अहंकार, वृद्धि, घमण्ड।
 उत्सृकी-(सं. वि.) अहंकारी, घमण्डी।
 उत्सृध-(हि. पुं.) उन्नति।
 उत्थपना-(हि. क्रि. स.) उठाना, निकालना,
 हटाना।
 उत्थल-(हि. वि.) तुच्छ, छिछोरा,
 भेद को गुप्त न रखनेवाला।
 उत्थलना-(हि. क्रि. अ.) चलायमान होना,
 स्थिर न रहना, डौंवाडोल होना।
 उत्थल-पुथल-(हि. स्त्री.) उलट-पुलट, क्रम
 का भंग; (वि.) विपर्यस्त, अड़-बड़।
 उत्थला-(हि. वि.) कम गहरा, छिछला।
 उत्थलाना-(हि. क्रि. स.) इधर-उधर
 लगाना, गड़बड़ करना।
 उद्-(सं. उप.) यह शब्द ऊपर, अभाव,
 दोष, उत्कर्ष, आश्चर्य, प्रकाश, शक्ति-
 प्राधान्यादि अर्थों में उपसर्ग की तरह संज्ञा
 तथा क्रिया के पहिले लगता है।
 उदक-(सं. पुं.) धी, तेल इत्यादि रखने
 का चमड़े का बड़ा पीपा।
 उदंच-(सं. वि.) ऊपर की घूमा या उठा हुआ।
 उदंड-(हि. वि.) देखें 'उदंड'।
 उदंत-(सं. पुं.) वार्ता, समाचार, खबर;
 (हि. वि.) दन्तहीन, विना दाँत का।
 उदक-(सं. पुं.) जल, पानी, हाथी बाँधने
 की सिकड़ी; -अद्रि-(हि. पुं.) हिमालय;
 -कार्य-(सं. पुं.) देहशुद्धि, मृतक के
 निमित्त जल देने का कार्य; -त्रिया-
 (सं. स्त्री.) शास्त्र-विहित रीति से
 तर्पण; -परीक्षा-(सं. स्त्री.) जल में
 डुबाकर शपथ लेना।
 उदकना-(हि. क्रि. अ.) ऊपर उठना,
 निकलना, कूदना।
 उदगरना-(हि. क्रि. अ.) भीतर से बाहर
 निकलना, दूल जाना, प्रकाशित होना,

उत्तेजित होना।
 उदगार-(हि. पुं.) देखें 'उद्गार'।
 उदगरना-(हि. क्रि. स.) बाहर निकालना,
 उभाड़ना, भड़काना।
 उदगारी-(हि. वि.) वमन करनेवाला।
 उदग्र-(सं. वि.) विशाल, ऊँचा, दीर्घ, उद्धत।
 उदघटना-(हि. क्रि. अ.) निकलना, प्रकट
 होना, खुलना।
 उदघाटना-(हि. क्रि. स.) शुभारंभ करना,
 खोलना, प्रकाशित करना।
 उदजन-(सं. पुं.) अंग्रेजी हाइड्रोजन के
 लिये पर्याय।
 उदय-(हि. पुं.) सूर्य, सूरज।
 उदधि-(सं. पुं.) समुद्र, मेघ, बादल,
 तट, किनारा, झील, घड़ा; -राज-
 (पुं.) समुद्र; -सुत-(पुं.) चन्द्रमा, राँस,
 अमृत, कमल; -सुता-(स्त्री.) लक्ष्मी।
 उदवत्-(हि. वि.) शून्य, सूना, खाली,
 उजाड़, किसी स्थान से हटाया हुआ।
 उदवासना-(हि. क्रि. स.) खलल करना,
 किसी स्थान से हटा देना, सूना करना,
 उजाड़ देना, भगा देना।
 उदवेग-(हि. पुं.) देखें 'उद्देग'।
 उदभट-(हि. वि.) देखें 'उदभट'।
 उदभव-(हि. पुं.) देखें 'उदभव'।
 उदभार-(हि. पुं.) मेघ, बादल।
 उदमदना-(हि. क्रि. अ.) उन्मत्त होना,
 पागल होना।
 उदमाद-(हि. पुं.) देखें 'उन्माद'।
 उदमादी-(हि. वि.) देखें 'उन्मादी'।
 उदमान-(हि. वि.) उन्मत्त।
 उदमानना-(हि. क्रि. अ.) उन्मत्त होना,
 पागल बनना।
 उदय-(सं. पुं.) सूर्य का उगना, प्रकट
 होना, मंगल, दीप्ति, लान, उन्नति, वृद्धि,
 उदयाचल पर्वत; -से अस्त तक-सुबह से
 साँझ तक, सम्पूर्ण समय, सारी पृथ्वी में।
 उदयगिरि-(सं. पुं.) उदयाचल पर्वत।
 उदयन-(सं. पुं.) अगस्त्य, उत्पान, निकास,
 उठान, अन्त, वलर्राज, उदयनारायण।
 उदयना-(हि. क्रि. अ.) उदय होना।
 उदयाचल-(सं. पुं.) देखें 'उदयगिरि'।
 उदयातिथि-(सं. स्त्री.) जिस तिथि में
 सूर्य उदय होते हैं।
 उदयाद्रि-(सं. पुं.) देखें 'उदयानल'।
 उदर-(सं. पुं.) उदर, पेट, किसी पदार्थ
 का न्यून या भीतरी भाग; -ग्वाला-
 (स्त्री) उदरान्नि, भाग।
 उदरना-(हि. क्रि. अ.) धोदरना, टूट-
 टूट कर उदयना।

उदरपरायण—(सं. वि.) पेट, मुखड़ा ।
 उदरपिशाच—(सं. वि.) सर्वान्न भक्षक,
 सप्त प्रकार की चीजे खानेवाला, पिशाच
 की तरह खानेवाला ।
 उदरिणी—(सं. स्त्री.) गर्भवती स्त्री ।
 उदकं—(सं. पुं.) उत्तर काल, भविष्य फल ।
 उदयना—(हि. क्रि. अ.) उदय होना, देख पड़ना ।
 उदयेग—(हि. पुं.) देखें 'उद्वेग' ।
 उदसना—(हि. क्रि. अ.) उजड़ना, नष्ट होना ।
 उदस्त—(सं. वि.) फँका हुआ, निकाला हुआ ।
 उदात्त—(सं. वि.) ऊँचे स्वर से उच्चारण
 किया हुआ, समर्थ, दाता, देनेवाला,
 सुन्दर, प्रिय, बड़ा; (पुं.) मुख के
 अर्ध नाग से उच्चारण किया हुआ
 स्वर, एक प्रकार का वाजा, एक अलं-
 कार जिसमें किसी संभावित विषय का
 बढ़ाकर वर्णन किया जाता है ।
 उदान—(सं. पुं.) कण्ठवायु जो गले से
 निकलकर सिरा पर जाती है ।
 उदाम—(हि. पुं.) देखें 'उद्दाम' ।
 उदायन—(हि. पुं.) उद्यान, बगीचा ।
 उदार—(सं. वि.) दाता, देनेवाला, ऊँचा,
 बड़ा, श्रेष्ठ, गंभीर, सरल, सीधा,
 महात्मा, शिष्ट, अनास्था, एक काव्या-
 लकार जिसमें निर्जीव पदार्थ में
 शिष्टता दिखलाई जाती है ।
 उदारचरित—(सं. वि.) शीलवान्, उदार
 चित्त का ।
 उदारता—(सं. स्त्री.) दानशीलता, उच्च
 विचार या स्वभाव ।
 उदारचेता—(सं. वि.) उदारमना ।
 उदारमना—(सं. वि.) शाहूखर्च ।
 उदारना—(हि. क्रि. स.) ओदारना, गिराना,
 तोड़ना ।
 उदारशय—(हि. वि.) उच्च विचार का ।
 उदावर्त—(सं. पुं.) पेट का एक रोग जिसमें
 मल-मूत्र निकलने में बहुत कष्ट होता है ।
 उदास—(सं. पुं.) विराग, उपेक्षा; (वि.)
 उदासीन, विरक्त, दुःखी, निरपेक्ष, तटस्थ ।
 उदासना—(हि. क्रि. अ., स.) उठाना, समे-
 टना, लोटना, उदास होना ।
 उदासी—(सं. पुं.) विरक्त पुरुष, संन्यासी,
 त्यागी, नानकपंथी साधु; (हि. स्त्री.)
 मित्रता, दुःख ।
 उदासीन—(सं. वि.) वैरागी, तटस्थ, जगड़े
 में न पड़नेवाला, अपरिचित, निराला,
 निष्पक्ष, सम्पूर्णरहित ।
 उदासीनता—(सं. स्त्री.) त्याग, मित्रता,
 उदासी, विरक्ति ।
 उदाहृत—(हि. स्त्री.) नीले रंग में लाली

की आभा ।
 उदाहरण—(सं. पुं.) दृष्टान्त, न्याय के अनु-
 सार साध्य-साधर्म्य से धर्मादि का प्रका-
 शन, कथा-प्रसंग, नाटक का गर्भांक ।
 उदाहृत—(सं. वि.) वर्णन किया हुआ,
 वर्णित, कहा हुआ ।
 उदित—(सं. वि.) उन्नत, उठा हुआ,
 चढ़ा हुआ, उत्पन्न, निकला हुआ,
 प्रादुर्भूत, कहा हुआ, स्वच्छ, प्रसन्न,
 ज्योतिष के अनुसार राशि का उदय ।
 उदितयौवना—(सं. स्त्री.) मुग्धा नायिका
 का एक भेद ।
 उदीचि—(सं. स्त्री.) उत्तर दिशा ।
 उदीच्य—(सं. वि.) उत्तर दिशा संबंधी,
 उत्तर दिशा में रहनेवाला ।
 उदीपन—(हि. पुं.) देखें 'उद्दीपन' ।
 उदीरित—(सं. वि.) कहा हुआ, सम-
 ज्ञाया हुआ, भेजा हुआ ।
 उदीर्ण—(सं. वि.) उदित, चढ़ा हुआ, प्रवल ।
 उद्वंवर—(सं. पुं.) गूलर, देहली, चौखट,
 नपुंसक, एक प्रकार का कुष्ठ रोग,
 दो तोले की तौल ।
 उद्वखल—(सं. पुं.) देखें 'उल्लखल' ।
 उद्वेग—(हि. पुं.) देखें 'उद्वेग' ।
 उद्वे, उद्वे—(हि. पुं.) देखें 'उदय' ।
 उद्वीत—(हि. पुं.) उद्योत, प्रभा, प्रकाश;
 (वि.) प्रकाशित, चमकीला, स्वच्छ,
 शुभ्र; -कर—(वि.) प्रकाश देनेवाला ।
 उद्वीती—(हि. वि.) प्रकाश देनेवाला ।
 उद्वगत—(सं. वि.) उत्पन्न, उदित, निकला
 हुआ, फँका हुआ ।
 उद्वग्ता—(सं. स्त्री.) विषमवृत्ति छन्द का
 एक भेद ।
 उद्वगति—(सं. स्त्री.) उदय, उत्पत्ति, उपज ।
 उद्वगम—(सं. पुं.) उत्थान, उत्पत्ति,
 उत्पत्ति का स्थान, ऊर्ध्वगति, नदी
 के निकलने का स्थान ।
 उद्वग्ता—(सं. पुं.) सामवेद का ऋत्विक् ।
 उद्वग्था—(सं. स्त्री.) आर्या छन्द का एक भेद ।
 उद्वगार—(सं. पुं.) वमन, उलटी,
 डेकार, टपकना, चूना, यूक, उच्चा-
 रण, बहती, बाढ़, अधिकता ।
 उद्वगारी—(सं. वि.) बाहर निकलनेवाला ।
 उद्वगीत—(सं. वि.) ऊँचे स्वर में गाया हुआ ।
 उद्वगीति—(सं. स्त्री.) ऊँचे स्वर के गायन
 का एक अवयव ।
 उद्वगीरण—(हि. पुं.) वमन, व्यक्त करने
 की क्रिया ।
 उद्वगीर्ण—(सं. वि.) कहा हुआ, निकला हुआ ।
 उद्वगीव—(सं. वि.) गरदन उठाये हुए ।

उद्वघटन—(सं. पुं.) आघात, रगड़ ।
 उद्वघटित—(सं. वि.) उन्मुक्त, खुला हुआ ।
 उद्वघाट—(सं. पुं.) पहरा, चौकी, चुंगीघर ।
 उद्वघाटक—(सं. पुं.) खोलनेवाला, कुंजी ।
 उद्वघाटन—(सं. पुं.) शुभारंभ, प्रकाशन,
 प्रकट करना, उन्मोचन, खोलाई ।
 उद्वघाटित—(सं. वि.) उद्वघाटन किया हुआ,
 प्रकाशित, खोला हुआ, उठाया हुआ ।
 उद्वघात—(सं. पुं.) निदर्शन, दिखाना,
 सूचना, आरम्भ, वाधा, ठोकर, आघात ।
 उद्वघातक—(सं. वि.) ठोकर मारने-
 वाला; (पुं.) नाटक की प्रस्तावना
 जिसमें कोई पात्र सूत्रधार या नटी की
 बात सुनकर दूसरा अर्थ जोड़ता है ।
 उद्वंर—(सं. वि.) प्रचण्ड, अक्खड़, बखेड़िया,
 उद्धत
 उद्वंर—(सं. वि.) अति शान्त, बहुत दवा
 हुआ, विनम्र ।
 उद्वाम—(सं. वि.) उच्छृंखल, निरंकुश ।
 उद्वालक—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
 उद्विष्ट—(सं. वि.) समझाया हुआ,
 दिखलाया हुआ, लक्ष्य किया हुआ,
 ढूँढा हुआ; (पुं.) छन्द में मात्रा-प्रस्तार
 के भेद का वर्णन ।
 उद्वीपक—(सं. वि.) प्रकाश देनेवाला,
 उत्तेजक, उमाड़नेवाला ।
 उद्वीपन—(सं. पुं.) प्रकाश, उत्तेजन,
 बढ़ाना, काम-क्रोधादि को बढ़ाने का
 काम, अलंकार में शृंगार रस को
 बढ़ानेवाली वस्तु ।
 उद्वीप्त—(सं. वि.) प्रज्वलित, बढ़ा हुआ ।
 उद्वेश—(सं. पुं.) अभिलाषा, लक्ष्य,
 इशारा, अनुसन्धान, उपदेश, वार्ता,
 नाम-कथन, हेतु, संक्षेप, उदाहरण ।
 उद्वेश्य—(सं. वि.) लक्ष्य, मतलब का,
 कहने योग्य; (पुं.) विशिष्ट, तात्पर्य
 मनशा, मतलब, वांछित अर्थ, इष्ट ।
 उद्वीत—(हि. वि.) देखें 'उद्योत' ।
 उद्व—(हि. अव्य.) ऊर्ध्व, ऊपर ।
 उद्वत—(सं. वि.) उत्कट, उग्र, प्रचण्ड,
 मड़काया हुआ, अविनीत, अक्खड़ ।
 उद्वतपन—(हि. पुं.) उग्रता, प्रचण्डता,
 अक्खड़पन ।
 उद्धरण—(सं. पुं.) उद्धार, छुटकारा,
 ऋण का चुकाना, उखाड़, उठाव,
 अलगाव, पढ़े हुए पाठ को दोहराना,
 किसी लेख के अंश को दूसरे लेख में
 उद्धृत करना, व्यसनो से मुक्त होना ।
 उद्धरणी—(हि. स्त्री.) पढ़े हुए पाठ को
 दोहराने का कार्य ।

उद्धरणाय—(सं. वि.) उद्धरण के योग्य ।
 उद्धरना—(हि. क्रि. स.) उद्धार करना, वचाना, उधारना ।
 उद्धापिणी—(सं. स्त्री.) वसन्ततिलक नामक वर्णवृत्त का भेद; (वि. स्त्री.) उमंग देनवाली ।
 उद्धव—(सं. पं.) यज्ञ की अग्नि, उत्सव ।
 उद्धार—(सं. पं.) मुक्ति, छुटकारा, समाज से निकाले हुए पुरुष का पुनर्ग्रहण, सुवार, उन्नति, ऋणमुक्ति ।
 उद्धारक—(सं. वि.) उद्धार करनेवाला ।
 उद्धारना—(हि. क्रि. स.) उद्धार करना, छोड़ाना, उधारना ।
 उद्धारित—(सं. वि.) उद्धार किया हुआ, छोड़ाया हुआ, उवारा हुआ ।
 उद्धृत—(सं. वि.) ज्यों का त्यों लिखा हुआ ।
 उद्ध्वंस—(सं. पं.) मंग, फटना ।
 उद्ध्वस्त—(सं. वि.) नष्ट, टूटा-फूटा ।
 उद्ध्वंघन—(सं. पं.) गले में फाँसी लगाकर टंग जाना ।
 उद्ध्वद्ध—(सं. वि.) ऊपर बँधा हुआ, टंगा हुआ, लटका हुआ ।
 उद्ध्याह—(सं. वि.) ऊर्ध्ववाह, हाथ ऊपर उठाये हुए ।
 उद्ध्वद्ध—(सं. वि.) खिला हुआ, फूला हुआ, प्रवृद्ध, उदित, उठा हुआ, जागा हुआ, चैतन्य, उद्दीपित, ज्ञान प्राप्त किया हुआ ।
 उद्ध्वद्धा—(सं. स्त्री.) परकीया नायिका जो अपनी इच्छा से परपुरुष से स्नेह बढ़ाती है, उद्धोषिता ।
 उद्धोष—(सं. पं.) अल्प ज्ञान, थोड़ी समझ, मूली हुई बात की याद ।
 उद्धोषक—(सं. वि.) उद्धोषन करनेवाला, जाग्रत करनेवाला, चेतानेवाला, प्रकाशक, सूचित करनेवाला, उद्दीपक ।
 उद्धोषन—(सं. पं.) ज्ञान कराना, चेताना, याद दिलाना, जागाना ।
 उद्धोषिता—(सं. स्त्री.) वह परकीया नायिका जो परपुरुष के प्रेम दिखलाने पर उस पर गुस्सा होती है ।
 उद्धभट—(सं. वि.) श्रेष्ठ, बड़ा, प्रबल, उदार, उच्च आशय का; (पं.) कछुआ, नूप, सूर्य ।
 उद्धभव—(सं. पं.) उत्पत्ति, वृद्धि, जन्म ।
 उद्धभाव—(सं. पं.) कल्पना, उत्पत्ति, चित्त की उधारना ।
 उद्धावना—(सं. स्त्री.) कल्पना, उत्पत्ति ।
 उद्धावत—(सं. पं.) प्रकाश, चमक, घोषना ।
 उद्धावतमान—(हि. वि.) प्रजापति ।
 उद्धावित—(सं. वि.) रोषित, राज्याय

हुआ, विदित, प्रकट किया हुआ ।
 उद्धभिज, उद्धभिज्ज, उद्धभिद्—(सं. वि. पं.) भूमि को भेदकर जन्म लेनेवाला (वन-स्पति, वृक्ष, लता इत्यादि) ।
 उद्धभिद् विद्या—(सं. स्त्री.) वनस्पति शास्त्र ।
 उद्धभिन्न—(सं. वि.) उत्पन्न, तोड़ा हुआ, निकला हुआ ।
 उद्धभूत—(सं. वि.) ऊँचा, उत्पन्न ।
 उद्धभेद—(सं. पं.) फोड़कर निकलना, विस्फोट, उदय, आविष्कार, प्रकाशन, उद्धाटन, रोमांच, मिलाप, अंकुर, अलंकार का वह भेद जिसमें चतुराई के साथ गुप्त किये हुए विषय को कारण-वश प्रकाशित करते हैं ।
 उद्धभेदन—(सं. पं.) फोड़कर निकल आना, प्रकाशन, छेद करके पार जाना ।
 उद्धभ्रम—(सं. पं.) उद्वेग, व्याकुलता ।
 उद्धभ्रांत—(सं. वि.) व्याकुल, भ्रान्ति-युक्त, मीचका, हतबुद्धि, व्यस्त, चक्कर खाता हुआ, भटका हुआ, उच्छृंखल; (पं.) तलवार का वार ।
 उद्धत—(सं. वि.) प्रवृत्त, तत्पर, लगा हुआ, प्रस्तुत, उछला हुआ, ताना हुआ, काम करनेवाला ।
 उद्धम—(सं. पं.) प्रयोग, उद्योग, प्रयत्न, उत्साह, मेहनत, व्यवसाय ।
 उद्धमित—(सं. वि.) यत्न से किया हुआ ।
 उद्धमी—(सं. वि.) उद्योगी, तत्पर, प्रयत्न करनेवाला ।
 उद्यान—(सं. पं.) बगीचा, उपवन ।
 उद्यापन—(सं. पं.) आरंभ, किसी व्रत के समाप्त होने पर किया जानेवाला धार्मिक कृत्य ।
 उद्यापित—(सं. वि.) पूर्ण किया हुआ ।
 उद्याम—(सं. पं.) रज्जु, रस्ती ।
 उद्योग—(सं. पं.) प्रयत्न, चेष्टा, परिश्रम, उद्यम, अव्यवसाय ।
 उद्योगी—(सं. वि.) उद्योग करनेवाला, उत्साही, परिश्रमी ।
 उद्योजक—(सं. वि.) प्रवर्तक, काम में लगानेवाला, निवोक्त ।
 उद्योत, उद्योतन—(सं. पं.) प्रकाश, चमक, उजाला करना ।
 उद्धिवत—(सं. वि.) फूटा हुआ, विह्वित ।
 उद्धेक—(सं. पं.) बढ़ती, वृद्धि, अवि-कता, उपभ्रम, आरंभ, वह काव्या-लंकार जिसमें एक वस्तु दूसरी से बहुत कुछ दिखाई जाती है ।
 उद्धमन—(सं. पं.) बर्षाना, कौ ।
 उद्धतक—(सं. वि.) कड़मेवाला ।

उद्धतन—(सं. पं.) विलेपन, उवटन ।
 उद्धतित—(सं. वि.) आर्चवित, चुगन्वित किया हुआ ।
 उद्धह—(सं. पं.) पुत्र, बेटा, सात वायुओं में से एक जो प्रवह वायु के ऊपर रहता है ।
 उद्धहन—(सं. पं.) कंधे पर बोझा डोना, उठाना, आकर्षण, खिचाव, विवाह, लवाई का काम ।
 उद्धहा—(सं. स्त्री.) पुत्री, बेटे ।
 उद्धास—(सं. पं.) अपने स्थान को छोड़कर अलग होना ।
 उद्धासन—(सं. पं.) संस्कार का एक भेद, विसर्जन, खदेड़ना, भगाना, रहने के स्थान से हटाना, मारण, वय ।
 उद्धाह—(सं. पं.) विवाह ।
 उद्धाहन—(सं. पं.) उठाव, छोड़ने का काम, चिन्ता हटाना, ऊपर ले जाना, विवाह ।
 उद्धाहनी—(सं. स्त्री.) डोरी, रस्ती ।
 उद्धाहिक—(सं. वि.) विवाह सम्बन्धी ।
 उद्धाहित—(सं. वि.) विवाह किया हुआ ।
 उद्धाहिनी—(सं. स्त्री.) देखें 'उद्धाहनी' ।
 उद्धिग्न—(सं. वि.) व्याकुल, चिन्तित, व्यग्र, घबड़ाया हुआ ।
 उद्धिग्नता—(सं. स्त्री.) घबड़ाहट, व्याकुलता ।
 उद्धीक्षण—(सं. पं.) ऊर्ध्व दृष्टि, ऊपर की ओर दृष्टि ।
 उद्धवृत्त—(सं. वि.) उत्तोलित, दुर्बृत्त, व्यग्र, घबड़ाया हुआ ।
 उद्धेग—(सं. पं.) चित्त की व्याकुलता, घबड़ाहट, चिन्ता, भय, आश्चर्य, चमत्कार ।
 उद्धेगी—(सं. वि.) चिन्ताकारक, चिन्तित ।
 उद्धेजक—(सं. वि.) दुःखदायी, नष्ट देनेवाला ।
 उद्धेजित—(सं. वि.) व्यग्र, घबड़ाया हुआ ।
 उद्धेजना—(हि. क्रि. अ.) उचड़ना, फूलना, उजड़ना, छूट जाना, नष्ट होना, वेत पड़ना ।
 उद्धम—(हि. पं.) देखें 'उद्यम' ।
 उद्धर—(हि. अव्य.) वहाँ, उस ओर ।
 उद्धरना—(हि. क्रि. अ., स.) उद्धार होना, छूटना, अलग होना, उद्धार करना, छोड़ाना, उचड़ना ।
 उद्धारना—(हि. क्रि. अ.) हवा से उड़कर बिखर जाना, मरनेवाला होना ।
 उद्धलना—(हि. क्रि. अ.) नस्त होना, कामा-नुर होना, नष्ट होना, बिगड़ना, पर-न पार के साथ साथ जाना ।
 उद्धली—(हि. स्त्री.) धरमिनी, धर्मिणी, धर्मिणी ।
 उद्धा—(हि. पं.) उगाह, उगाही जो एक पैत उधार—(हि. पं.) उध, देव, मंगली, उत्तर, छुटकारा ।
 उधारक—(हि. वि.) देखें 'उधारक' ।

उपनगर—(सं. पुं.) शहर या नगर के चारों ओर बिकरे बाजार।
 उपनत—(सं. वि.) नम्र, झुका हुआ।
 उपनीति—(सं. स्त्री.) झुकाव, उपस्थिति।
 उपनय—(सं. पुं.) समीप पहुँचाने का कार्य, बालक को गुरु के पास ले जाने का कार्य, उपनयन संस्कार, जनेऊ, न्याय मत से सिद्ध ज्ञान का लक्षण।
 उपनयन—(सं. पुं.) ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य के यज्ञोपवीत धारण करने का संस्कार, जनेऊ।
 उपनागरिका—(सं. स्त्री.) वृत्ति अनु-प्राप्त का एक भेद।
 उपनाम—(सं. पुं.) उपाधि, पदवी, नाम, प्यार का नाम।
 उपनायक—(सं. पुं.) नाटक में प्रधान नायक का मित्र।
 उपनिधाता—(सं. वि.) धरोहर रखनेवाला।
 उपनिधि—(सं. स्त्री.) धरोहर, बंधक, थाती।
 उपनिबंध—(सं. पुं.) रचना, वनावट, गूँथन।
 उपनिषद—(सं. वि.) नई आवादी में धाकर बसा हुआ।
 उपनिवेश—(सं. पुं.) दूर देश से आकर नये स्थान में बसना, नगर के समीप की छोटी बस्ती।
 उपनिषत् (द्)—(सं. स्त्री.) समीप बैठना, रहस्य, निजेन स्थान, वेद का शिरो-भाग, वेदान्त, ब्रह्म-विद्या, वह विद्या जिससे अज्ञान का नाश होता है तथा जिमके द्वारा परमात्मा प्राप्त होते हैं।
 उपनिहित—(सं. वि.) स्थापित, रखवा हुआ।
 उपनीत—(सं. वि.) पास लाया हुआ, प्राप्त, उपस्थित, पहुँचा हुआ, जिसका उपनयन-संस्कार हो गया हो।
 उपनीता—(सं. स्त्री.) व्याहृकर लाई हुई स्त्री।
 उपनीयमान—(सं. वि.) पास में लाया हुआ।
 उपनेता—(सं. पुं.) ले जानेवाला, भेंट चढ़ाने-वाला, उपनयन करानेवाला, गुरु या आचार्य।
 उपन्यास—(सं. पुं.) वाक्य का प्रयोग, वाक्य को आरंभ करना, प्रस्ताव, विचार, धरो-हर, उपगथा, रोचक कहानी, किस्सा।
 उपपत्ति—(सं. पुं.) दूसरे की स्त्री से प्रेम करनेवाला पुरुष, जार, धार।
 उपपत्ति—(सं. स्त्री.) युक्ति, संगति, निवृत्ति, हेतु, उपाय, सिद्धि, प्राप्ति, न्यायमत से ज्ञान, गणित शास्त्र के अनुसार प्रमाण, कारण।
 उपपत्नी—(सं. स्त्री.) किसी पुरुष से फँसी हुई हमारे की स्त्री।
 उपपद—(सं. पुं.) पहले या समीप में

प्रयोग किया हुआ पद, उपाधि।
 उपपन्न—(सं. वि.) संस्कारयुक्त, जाँचा हुआ, लगा हुआ, आया हुआ, उचित, सम्पन्न, उत्पन्न, प्राप्त, उपयुक्त।
 उपपात—(सं. पुं.) एकाएक आगमन, नाश।
 उपपातक—(सं. पुं.) छोटा पाप, यथा—परस्त्रीगमन, आत्मविक्रय, निन्दित खाद्य का भोजन इत्यादि।
 उपपाद—(सं. पुं.) उपपत्ति, ठहराव।
 उपपादक—(सं. वि.) संपादक, ठहरानेवाला।
 उपपादन—(सं. पुं.) सिद्ध करना, ठहराना, सम्पादन।
 उपपादित—(सं. वि.) सम्पादित, ठहराया हुआ, युक्ति द्वारा समर्थन किया हुआ।
 उपपाद्य—(सं. वि.) युक्ति या तर्क द्वारा संपादन करने योग्य।
 उपपाप—(सं. पुं.) देखें 'उपपातक'।
 उपपालित—(सं. वि.) रक्षित, पाला हुआ।
 उपपीडित—(सं. वि.) पीडित, सताया हुआ।
 उपपुराण—(सं. पुं.) व्यास के अतिरिक्त अन्य ऋषियों द्वारा लिखा हुआ पुराण—इनकी संख्या भी अठारह है।
 उपप्रदर्शन—(सं. पुं.) निर्देश, सूचना, देखावट।
 उपप्लव—(सं. पुं.) आकाश से तारा टूटना, विप्लव, विपत्ति।
 उपप्लुत—(सं. वि.) उपद्रवयुक्त, राहु-ग्रस्त, विपद्ग्रस्त।
 उपप्लव—(सं. वि.) संलग्न, लगा हुआ।
 उपवाहु—(सं. पुं.) हाथ का पंजे से केहुनी तक का भाग।
 उपभाषा—(सं. स्त्री.) गौण भाषा।
 उपभुक्त—(सं. वि.) व्यवहार में लाया हुआ, जूठा, खाया हुआ, उच्छिष्ट।
 उपभुक्ति—(सं. स्त्री.) उपभोग।
 उपभोक्ता—(सं. पुं.) उपभोग करनेवाला।
 उपभोग—(सं. पुं.) व्यवहार, सुख की सामग्री, किसी पदार्थ के व्यवहार का सुख।
 उपभोगी—(सं. वि.) उपभोग करनेवाला।
 उपभोग्य—(सं. वि.) उपभोग करने योग्य।
 उपभोजी—(सं. वि.) उपभोग करनेवाला।
 उपमंत्रण—(सं. पुं.) निमन्त्रण, नेवता।
 उपमा—(सं. स्त्री.) तुलना, अर्थालंकार का एक भेद जिसमें साधारण धर्म विशिष्ट मित्र जाति की तुलना दो वस्तुओं में दिखाई जाती है।
 उपमाता—(सं. स्त्री.) धाय, माता तुल्य स्त्री, बच्चे को दूध पिलानेवाली स्त्री; (वि.) उपमा देनेवाला।
 उपमान—(सं. पुं.) सादृश्य, बराबरी, वह वस्तु जिससे उपमा दी जाती है,

सादृश्य के ज्ञान का साधन।
 उपमाना—(हिं. क्रि. स.) उपमा देना।
 उपमा रूपक—(सं. पुं.) उपमा अलंकार का एक प्रकार।
 उपमालिनी—(सं. स्त्री.) छन्द का एक भेद।
 उपमित—(सं. वि.) जिसकी उपमा दी गई हो, सदृश, बराबर।
 उपमिति—(सं. स्त्री.) उपमालंकार, न्याय के अनुसार अनुभव-सिद्ध ज्ञान विशेष।
 उपमेय—(सं. वि.) उपमा का विषय वर्णन करने योग्य, जिसकी उपमा दी जावे।
 उपमेयोपमा—(सं. स्त्री.) अर्थालंकार जिसमें उपमान की उपमेय और उप-मेय की उपमान से उपमा दी जाती है।
 उपयम—(सं. पुं.) त्रिवाह, शादी।
 उपयसन—(सं. पुं.) देखें 'उपयम'।
 उपयाचक—(सं. वि.) पास में जाकर माँगनेवाला।
 उपयाचित—(सं. वि.) समर्पित, प्रार्थना किया हुआ।
 उपयान—(सं. पुं.) निकट में गमन।
 उपयुक्त—(सं. वि.) योग्य, उचित, भुक्त, रचित, बना हुआ।
 उपयुक्तता—(सं. स्त्री.) यथार्थता, योग्यता।
 उपयोग—(सं. पुं.) व्यवहार, काम, योग्यता, आवश्यकता, भोग, प्रयोजन, औषधि-क्रिया।
 उपयोगिता—(सं. स्त्री.) आवश्यकता, साहाय्य, मदद, उपयुक्तता।
 उपयोगी—(सं. वि.) योग्य, अनुकूल, उपयुक्त, उपकारी, लाभकारी, काम में आनेवाला।
 उपयोज्य—(सं. वि.) उपयोग में लाने योग्य, व्यवहार्य।
 उपरक्षक—(सं. वि.) रक्षा के लिए पास पहरा देनेवाला।
 उपरत—(सं. वि.) हटा हुआ, निकला हुआ, उदासीन, मरा हुआ।
 उपरति—(सं. स्त्री.) विरति, त्याग, संन्यास, उदासी, वैराग्य, वासना का त्याग, निवारण, मृत्यु।
 उपरतन—(सं. पुं.) कम मूल्य के रत्न।
 उपरना—(हिं. पुं.) ऊपरी वस्त्र, दुपट्टा, चादर; (हिं. क्रि. अ.) उखड़ना।
 उपरफट, उपरफट्ट—(हिं. वि.) अनावश्यक, ऊपरी, बिना ठिकाने का, व्यर्थ।
 उपरमण—(सं. पुं.) निवृत्ति, वैराग्य।
 उपरवार—(हिं. स्त्री.) उच्च भूमि।
 उपरस—(सं. पुं.) गौण रस, उपचातु, वैद्यक के अनुसार-पारद, गंधक, अन्नक,

सिन्दूर, गैरिक, क्षितिज और शैल्य
-ये उपरस कहलाते हैं।
उपरांठा-(हि. पूं.) परांठा, धी लगाकर
तबे पर सेंकी हुई रोटी।
उपरांत-(सं. अव्य.) अनंतर, इसके बाद,
तदनंतर।
उपरा-(हि. पूं.) गोल उत्पल, उपला।
उपराग-(सं. पूं.) राहु-ग्रस्त चन्द्रमा,
व्यसन, संबंध, रंग, वासना, प्रवृत्ति,
निन्दा, गौण रूप।
उपराचढ़ी-(हि. स्त्री.) चढ़ाचढ़ी, प्रतिस्पर्धा।
उपराज-(सं. पूं.) राजा का प्रतिनिधि,
राजा के तुल्य शासक।
उपराजना-(हि. क्रि. स.) उत्पन्न करना,
जन्माना, निर्माण करना, बनाना, उपा-
र्जन करना, कमाना।
उपराना-(हि. क्रि. प्र., स.) ऊपर चढ़ना,
प्रगट होना, देख पड़ना, उठाना।
उपराम-(सं. पूं.) निवृत्ति, मृत्यु, संन्यास।
उपरि-(सं. अव्य.) ऊपर, अनन्तर, बाद।
उपरिचित-(सं. वि.) ऊपर रखा या जमा
किया हुआ।
उपरी-(हि. स्त्री.) छोटी गोल गोहरी,
उपली; (वि.) ऊपरी।
उपरपक-(सं. पूं.) एक छोटा नाटक
जिसके निम्नलिखित १८ भेद होते हैं-
नाटिका, शोटक, गोष्ठी, सट्टक,
नाट्य रासक, प्रस्थान, लाप्य, काव्य,
प्रेक्ष्यण, रासक, संलापक, श्रीगदित,
गित्यक, विलासिका, दुर्मल्लिका,
प्रकरणी, हल्लीश और भाण।
उपरोक्त-(हि. वि.) उपर्युक्त, पहिले या
ऊपर कहा हुआ।
उपरोध-(सं. पूं.) आवरण, ढपना,
प्रतिबन्ध, रोक, अनुरोध।
उपरोधक-(सं. वि.) प्रतिबन्धक, रोकने-
वाला, बाधा डालनेवाला; (पुं.) घर
का भीतरी कमरा।
उपरोधन-(सं. पूं.) प्रतिबन्धन, रोक।
उपरोधी-(सं. वि.) प्रतिरोधक।
उपरोहित-(हि. पूं.) देवें 'पुरोहित'।
उपरोहिता-(हि. स्त्री.) देवों 'पौरोहित्य'।
उपरोष्ठा-(हि. अव्य.) ऊपर की ओर।
उपरोष्ठा-(हि. पूं.) ऊपरी भाग, ऊपरी
पल्ला।
उपरोष्ठा-(हि. वि.) ऊपर का, ऊपरी।
उपर्युक्त-(हि. वि.) ऊपर कहा हुआ।
उपलभ-(सं. पूं.) अनुभव, ज्ञान।
उपल-(सं. पूं.) पत्थर, पाषाण, रत्न,
जवाहर, भेंघ, चांदल।

उपलक्षक-(सं. वि.) अनुमान करने-
वाला, दर्शक, उपादान के लक्षण से
भिन्न बोधक (शब्द)।
उपलक्षण-(सं. पूं.) अपनी तरह दूसरी
वस्तु को बता देनेवाला शब्द, विशेष
लक्षण, ध्यान, देखभाल।
उपलक्षित-(सं. वि.) चिह्न से प्रकाशित।
उपलक्ष्य-(सं. पूं.) अवलंबन, टेक,
प्रयोजन, उद्देश्य, प्रमाण; (वि.) प्रमाण
देने योग्य।
उपलब्ध-(सं. वि.) प्राप्त, मिला हुआ,
विचारा हुआ, समझा हुआ।
उपलब्धि-(सं. स्त्री.) ज्ञान, प्राप्ति,
समझ, अनुमान।
उपलभ्य-(सं. वि.) प्राप्य, मिलनेवाला।
उपलभ्यमान-(सं. स्त्री.) पाया जाने-
वाला, मिलनेवाला।
उपला-(सं. स्त्री.) शक्कर, चीनी,
बालू; (हि. पूं.) गोहरा, कंडा।
उपलिप्त-(सं. वि.) लपेटा हुआ, चुपड़ा
हुआ, लीपा हुआ।
उपली-(हि. स्त्री.) छोटी गोल गोहरी।
उपलेप-(सं. पूं.) गोबर इत्यादि से लेप,
प्रतिबन्ध।
उपलेपन-(सं. पूं.) लीपने-पोतने का काम।
उपलेपक-(सं. वि.) लीपने-पोतनेवाला।
उपलेपी-(हि. वि.) उपलेपक।
उपल्ला-(हि. पूं.) ऊपरी भाग या तह।
उपवन-(सं. पूं.) छोटा जंगल, उद्यान,
दगीचा।
उपवास-(सं. पूं.) भोजन का अभाव,
अनशन, वह व्रत जिसमें भोजन नहीं
किया जाता।
उपवासक-(सं. वि.) अनाहारी।
उपवासी-(सं. वि.) अनाहारी, उपवास
करनेवाला।
उपविद्या-(सं. स्त्री.) गौण विद्या।
उपविष-(सं. पूं.) हलका विष, बना-
वटी विष, आयुर्वेद के अनुसार-बूहर,
मदार, करियारी, घुगची, कनेर, कुचला,
जमालगोटा, धतूरा और अफीम-ये
उपविष कहलाते हैं।
उपविष्ट-(सं. वि.) बैठा हुआ।
उपवीत-(सं. पूं.) बायें कंधे पर रक्ता
हुआ यज्ञमूल, जनेऊ।
उपवृंहित-(सं. वि.) उच्छन्न हुआ, बढ़ा
हुआ, बढ़ाया हुआ।
उपवेद-(सं. पूं.) वेद से निकली हुई
विद्या; यथा-आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व-
वेद आदि।

उपवेश-(सं. पूं.) स्थिति, बैठक।
उपवेशन-(सं. पूं.) आसन, स्थापन, बैठना।
उपवेशित-(सं. वि.) स्थापित, बैठा हुआ।
उपवेशी-(सं. वि.) बैठनेवाला।
उपशम-(सं. पूं.) इन्द्रियों का निग्रह,
तृष्णा का नाश, निवृत्ति, छुटकारा,
रोगों के उपद्रव की शान्ति।
उपशमक-(सं. वि.) शान्ति देनेवाला।
उपशमनीय-(सं. वि.) शान्त किये जाने
योग्य।
उपशांत-(सं. वि.) शान्त किया हुआ,
घटा हुआ।
उपशांति-(सं. स्त्री.) उपगम, निवृत्ति,
आरोग्य, निवारण।
उपशाखा-(सं. स्त्री.) छोटी शाखा, डाल।
उपशाथी-(सं. वि.) निद्रा लानेवाला।
उपशास्त्र-(सं. पूं.) सामान्य विद्या।
उपशिक्षित-(सं. वि.) शिक्षाप्राप्त।
उपशिष्य-(सं. पूं.) शिष्य का शिष्य,
चेले का चेला।
उपशोभित-(सं. वि.) शोभायुक्त, अलंकृत।
उपश्रुत-(सं. वि.) सुना हुआ, माना हुआ।
उपसंयोग-(सं. पूं.) निकट संबंध।
उपसंवाद-(सं. पूं.) प्रतिज्ञा।
उपसंहार-(सं. पूं.) समाप्ति, संग्रह,
हरण, नाश, आक्रमण, संकोच, निवर्तन,
निकास, सारांश, किसी पुस्तक के अन्त
का अव्याय जिसमें संक्षेप रूप से
इसका उद्देश्य दिखलाया जाता है।
उपसना-(हि. क्रि. अ.) दुर्गन्ध होना, सड़ना
उपसन्न-(सं. वि.) उपस्थित, पहुँचा हुआ।
उपसन्नता-(सं. स्त्री.) निकटता, पड़ोस।
उपसरण-(सं. पूं.) बहिर्निगमन, बहाव।
उपसर्ग-(सं. पूं.) नूकम्प इत्यादि उत्पात,
अनिष्ट, रोग का विकार, दुःख, क्लेश,
अपशकुन, व्याकरणोक्त वह अव्यय जो
शब्द के पहिले जोड़ा जाता है और
इसके अर्थ में विनोपता लाता है।
उपसागर-(सं. पूं.) छोटा समुद्र, खाड़ी।
उपसाना-(हि. क्रि. स.) शानो बनाना,
सड़ाना।
उपसृष्ट-(सं. पूं.) गिहृष्ट नामक देव
का पुत्र (पुराण)।
उपसृष्ट-(सं. वि.) व्याप्त, युक्त, लगा हुआ।
उपसेचन-(सं. पूं.) पानी से गिराई,
पानी छिड़कना, नर करना।
उपसेवक-(सं. वि.) पर-नशी-नामन
करनेवाला, मेज करनेवाला।
उपसेवन-(सं. पूं.) नमीय रू. पर मेज
करना।

उपसेवा-(सं. स्त्री.) पूजा, प्रतिष्ठा ।
 उपसेवी-(सं. वि.) सेवा करनेवाला ।
 उपस्कर-(सं. पुं.) उपकरण, सहारा ।
 उपस्कृत-(सं.वि.) विमूषित, सजाया हुआ ।
 उपस्तम्भ-(सं. पुं.) अवलम्ब, सहारा ।
 उपस्य-(सं. पुं.) नीचे का भाग, पदा, पुलिग, योनि, मलद्वार, अंक, गोद, पंडु, स्थिति; (वि.) समीपस्थित, पास बैठता हुआ ।
 उपस्थल-(सं. पुं.) नितंब, चूतड़, कन्दुद, कुल्हा ।
 उपस्थाता-(सं.वि.,पुं.)उपासक, झुका हुआ
 उपस्थान-(सं. पुं.) उपस्थिति, आगमन, उपासना, पूजा के निमित्त निकट आना, उपसर्पण, खड़े होकर स्तुति करना, प्राप्ति, तीर्थस्थान ।
 उपस्थायी-(सं. वि.) उपस्थित होनेवाला ।
 उपस्थित-(सं. वि.) समीप का, पास आया हुआ, प्राप्त, वर्तमान, याद किया हुआ, सेवा किया हुआ ।
 उपस्थिता-(सं. स्त्री.) दस दस अक्षरों के चार पादों का एक छन्द ।
 उपस्थिति-(सं. स्त्री.) उपस्थान, पहुँच, वर्तमानता, उपासना, स्मृति, याददास्त ।
 उपस्नेह-(सं. पुं.) उपलेप, लीपना-पीतना ।
 उपस्पर्श-(सं. पुं.)स्पर्श, स्नान, आचमन ।
 उपस्मृति-(सं. स्त्री.) धर्मशास्त्र संबंधी गौण पुस्तक ।
 उपस्वत्व-(सं. पुं.) किसी सम्पत्ति से प्राप्त होनेवाले आय का अधिकार ।
 उपहत-(सं. वि.) चोट खाया हुआ, आपत्ति में पड़ा हुआ, नष्ट किया हुआ, विगड़ा हुआ, तिरस्कार किया हुआ, दूषित, अशुद्ध, रुका हुआ ।
 उपहततामा-(सं. वि.) विचलित-हृदय, धक्काया हुआ ।
 उपहरण-(सं.पुं.)पास में लाने का काम ।
 उपहासित-(सं. वि.) उपहास किया हुआ; (पुं.) उपहास, हँसी-ठट्ठा ।
 उपहार-(सं. पुं.) भेंट, आहुति, सम्मान, अतिथि को दिया जानेवाला भोजन, (शिव की उपासना में अट्टहास, नृत्य, गीत, वृषभवत् गर्जन, नमस्कार और भजन—ये उपहार के अंग हैं ।)
 उपहारी-(सं. वि.) आहुति देनेवाला, यज्ञ करनेवाला ।
 उपहात-(सं. पुं.) निन्दासूचक हास, हँसी-ठट्ठा ।
 उपहासक-(सं. वि.) हँसने की हँसी उड़ानेवाला ।

उपहासास्पद-(सं. वि.) हँसी उड़ाने योग्य, निन्दनीय ।
 उपहासी-(हिं. स्त्री.) हँसी, ठट्ठा ।
 उपहित-(सं. वि.) अपित, दिया हुआ, रखा हुआ ।
 उपहृत-(सं. वि.) लाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ ।
 उपांग-(सं. पुं.) तिलक, टीका, प्रत्यंग, अंग का अंग, विद्या का गौण भाग (पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र), छोटा भाग ।
 उपांत-(सं. वि.) निकट, समीप; (पुं.) प्रान्त भाग, तीर, किनारा, कोना, अन्तिम अक्षर के पहले का अक्षर ।
 उपांतिक-(सं. वि.) समीप का, पड़ोसी ।
 उपाकरण-(सं. पुं.) आरंभ, समीप लाने का कार्य ।
 उपाकर्म-(सं.पुं.)संस्कारपूर्वक वेद-ग्रहण ।
 उपाक्ष-(सं. पुं.) उपनेत्र ।
 उपाक्ष्य-(सं.वि.)आँख से देखा जानेवाला ।
 उपाख्यान-(सं. पुं.) पुरानी कथा, पूर्व वृत्तान्त, वर्णन, उपन्यास, झूठी कथा ।
 उपाटना, उपाड़ना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'उखाड़ना' ।
 उपादान-(सं. पुं.) प्राप्ति, वर्णन, इन्द्रियों का निग्रह, अभिप्राय, बोध, छिपा अर्थ, बौद्धमत के अनुसार शरीर या वाणी की चेष्टा, न्यायमत से समवायी कारण (समीप का कारण), वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ तैयार हो, सांख्य मत से कार्य से अभिन्न कारण ।
 उपादेय-(सं. वि.) ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य, श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा ।
 उपाधान-(सं. पुं.) उपधान, तकिया ।
 उपाधि-(सं. स्त्री.) विशेष जाति, वंश इत्यादि को बतलानेवाला शब्द, धर्म, चिन्ता, छल, आधार, कारण, समृद्धि, बढ़ती, न्याय के मत से जाति से भिन्न धर्म, सम्मान-सूचक शब्द, उपद्रव, उत्पात ।
 उपाधी-(सं. वि.) उत्पाती, ऊधम मचानेवाला ।
 उपाध्या-(हिं. पुं.) देखें 'उपाध्याय' ।
 उपाध्याय-(सं. पुं.) वेद-वेदांग पढ़ानेवाला, अध्यापक, ब्राह्मण की एक उपाधि ।
 उपाध्याया-(सं.स्त्री.)अध्यापिका, पढ़ानेवाली स्त्री ।
 उपाव-(सं. पुं.) समीप पहुँचना, निकट आना, साधन, युक्ति, द्रव्य का उपाजन, शत्रु पर विजय प्राप्त करने की विधि; (यह चार हैं—साम, दाम, दण्ड और भेद);

रोकने की विधि, उपक्रम, सिलसिला ।
 उपायन-(सं. पुं.) उपगमन, भेंट देने की वस्तु, उपहार ।
 उपारंभ-(सं. पुं.) आरम्भ ।
 उपारना-(हिं.क्रि.स.) देख 'उपाड़ना' ।
 उपारुद्ध-(सं. वि.) बढ़ा हुआ ।
 उपार्जक-(सं. वि.) कमानेवाला ।
 उपार्जन-(सं. पुं.) कमाई, लाभ, वाणिज्यादि से लाभ ।
 उपार्जनीय-(सं. वि.) कमाने योग्य ।
 उपार्जित-(सं. वि.) प्राप्त, कमाया हुआ ।
 उपालम्भ-(सं.पुं.) निन्दापूर्वक तिरस्कार, गाली-गलोज, विलंबन, ओरहना ।
 उपालम्भन-(सं. पुं.) देखें 'उपालम्भ' ।
 उपालम्भ्य-(सं. वि.) निन्दनीय ।
 उपाश्रय-(सं.पुं.)आश्रय का स्थान, सहायता
 उपाश्रित-(सं. वि.) आश्रित, सहारा लिया हुआ ।
 उपास-(हिं. पुं.) देखें 'उपवास' ।
 उपासक-(सं. वि., पुं.) सेवक, पूजा या आराधना करनेवाला, भक्त ।
 उपासना-(सं. स्त्री.) समीप बैठने का कार्य, पूजा, परिचर्या, आराधना, ध्यानादि द्वारा इष्ट देवता का चिन्तन ।
 उपासनीय-(सं. वि.) उपासना किये जाने योग्य, आराध्य, पूजनीय ।
 उपासा-(हिं. पुं.) अन्न-जल न ग्रहण करनेवाला ।
 उपासित-(सं. वि.) पूजित, आराधित ।
 उपासी-(हिं. वि.) देखें 'उपासा' ।
 उपासीन-(सं. वि.) पास में बैठता हुआ ।
 उपास्थि-(सं. स्त्री.) कोमलास्थि, कोमल हड्डी ।
 उपास्य-(सं. वि.) चिन्तनीय, सेवा करने योग्य, आराध्य ।
 उपेद्र-(सं. पुं.) इन्द्र के छोटे भाई, वामन, विष्णु ।
 उपेद्रवज्जा(सं. स्त्री.) ग्यारह अक्षरों के चार पादों का एक छन्द ।
 उपेक्षक-(सं. वि.) उपेक्षा करनेवाला ।
 उपेक्षण-(सं. पुं.) अनादर, उदासीनता, घृणा, तिरस्कार ।
 उपेक्षणीय-(सं.वि.) उपेक्षा के योग्य, उपेक्ष्य
 उपेक्षा-(सं. स्त्री.) त्याग, विरक्ति, उदासीनता, घृणा, तिरस्कार, अवहेलना अनादर ।
 उपेक्षित-(सं. वि.) अनादर किया हुआ, अवहेलित, त्यक्त, छोड़ा हुआ ।
 उपेक्ष्य-(सं. वि.) उपेक्षा के योग्य ।
 उपेक्षना-(हिं. क्रि. स.) उपेक्षा करना ।

उपेत-(सं. वि.) समीप आया हुआ, पहुँचा हुआ, यज्ञोपवीत किया हुआ।
 उपेय-(सं. वि.) उपाय-साध्य, मिलने योग्य।
 उपेना-(हिं. वि.) नंगा, उधाड़ा, खुला हुआ।
 उपोत्थित-(सं. वि.) ऊपर को उठा हुआ।
 उपोद्ग्रह-(सं. पुं.) ज्ञान, समझ।
 उपोद्घात-(सं. पुं.) उपक्रम, भूमिका, आरम्भ, उदाहरण, पुस्तक के आरम्भ का कथन।
 उपोष, उपोषण-(सं. पुं.) उपवास, दिनरात कुछ न खाने की स्थिति, निराहार, व्रत।
 उपोषित-(सं. वि.) उपवास किया हुआ।
 उप्लि-(सं. स्त्री.) वपन, बोवाई।
 उफनना-(हिं. क्रि. अ.) फेन देना, झगड़ने के लिये उद्यत होना।
 उफनाना-(हिं. क्रि. अ.) उबलना, उमड़ना, जल्दी करना।
 उफान-(हिं. पुं.) फेन, उवाल, झाग।
 उफाल-(हिं. पुं.) लंबा डग।
 उवकना-(हिं. क्रि. स.) वमन करना, उगलना।
 उवका-(हिं. पुं.) सरकनेवाली गाँठ या फन्दा।
 उवकाई-(हिं. स्त्री.) वमन का उद्गार, ओकाई, मचली।
 उवछना-(हिं. क्रि. स.) जल को ऊपर की ओर फेंकना।
 उवट-(हिं. पुं.) कुमार्ग, ऊँची-नीची भूमि।
 उवटन-(हिं. पुं.) अम्यंग, अंगराग, शरीर पर मलने का लेप, चुकवा।
 उवटना-(हिं. क्रि. स.) उवटन मलना, अंगराग लगाना।
 उवडुव करना-(हिं. क्रि. अ.) पानी में डूबना या गोते खाना।
 उवरना-(हिं. क्रि. अ.) मुक्ति पाना, उद्धार होना, छुटना, बच जाना, निस्तार पाना।
 उवलना-(हिं. क्रि. अ.) ऊपर को उठना, उफनना, उमड़ना, खोलना।
 उवसन-(हिं. पुं.) उदसन, वस्तन माँजने का रार-कतवार, जूना।
 उवसना-(हिं. क्रि. अ., स.) चिपचिपा होना, मैला होना, शिथिल पड़ना, वस्तन मलना।
 उवहन-(हिं. पुं.) पानी खींचने का रस्ता।
 उवहना-(हिं. क्रि. अ., स.) हथियार उठाना, मियान से तलवार खींचना, उलचना, उमड़ना, जोतना, ऊपर की ओर उठना; (वि.) विना जूता पहिने हुए।
 उवहनी-(हिं. स्त्री.) रस्ती।
 उवांत-(हिं. स्त्री.) वमन, कय, उलटी।
 उवाई-(हिं. स्त्री.) ऊत्र जाने की स्थिति, व्यग्रता।
 उवयाना-(हिं. वि. स.) ऊत्रने का कारण

होना, बोना, उगाना, बढ़ाना; (वि.) नंगा।
 उवार-(हिं. पुं.) मोक्ष, उद्धार, निस्तार, छुटकारा, झूल, ओहार।
 उवारना-(हिं. क्रि. स.) मुक्ति देना, छुटकारा देना, छोड़ना।
 उवारा-(हिं. पुं.) पशु के पानी पीने का कुण्ड, जलाधान।
 उवाल-(हिं. पुं.) आँच लगने पर फेन के साथ ऊपर को उठना, उद्वेग।
 उवालना-(हिं. क्रि. स.) गरम करना, खोलना, उसिनना, सिझाना, पानी, दूध आदि खोलना, जोश उत्पन्न करना।
 उवासी-(हिं. स्त्री.) जूम्मा, जँमाई।
 उवाहना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'उवहना'।
 उवठना-(हिं. क्रि. अ.) जी भर जाने पर अच्छा न लगना, फीका मालूम होना, विरक्त होना, घबड़ा जाना।
 उवठना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'उवठना'।
 उवठना-(हिं. क्रि. अ.) फँस जाना, उलझना, बँसना, लगना, छिदना।
 उवोधा-(हिं. वि.) फँसा हुआ, गड़ा हुआ, घँसा हुआ, कँटीला, कांटों से भरा हुआ।
 उवना-(हिं. वि.) जूता न पहिने हुए, नंगे पैर का।
 उवेरना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'उवारना'।
 उवौना-(हिं. वि.) उवानेवाला।
 उवौवा-(हिं. वि.) ऊत्र जानेवाला।
 उवडुना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'उवरना'।
 उवयंकर-(सं. वि.) दो काम करनेवाला।
 उवय-(सं. वि.) हर दो, दोनों।
 उवयचर-(सं. वि.) जल तथा स्थल दोनों में रहनेवाला।
 उवयतः-(सं. अच्य.) दोनों ओर, दोनों तरफ।
 उवयतोमुख-(सं. वि.) दो मुखवाला।
 उवयतोमुखीगौ-(सं. स्त्री.) वह गाय जिसके गर्न से बच्चे का मुख बाहर आ गया हो।
 उवयविद्या-(सं. स्त्री.) धार्मिक और आर्थिक विज्ञान।
 उवयविच-(सं. वि.) दो प्रकार का।
 उवयविपुला-(सं. स्त्री.) आर्या छंद का एक नैद।
 उवयव्यंजक-(सं. वि.) दोनों लिंगों के चिह्न रखनेवाला।
 उवरना-(हिं. क्रि. अ.) उठना, बढ़ना, जवानो पर आना, उठकना, उत्तेजित होना, फिर से निकलना, फूटना, उद्वेग, पाना, चले जाना, प्रकाशित होना, उतरना, गुगुना, उतरना होना।

उभाड़-(हिं. पुं.) उठान, जँचाई, वृद्धि।
 उभाड़वार-(हिं. वि.) उमड़ा हुआ, मड़कीला।
 उभाड़ना-(हिं. क्रि. स.) उत्तेजित करना, उसकाना, बहकाना।
 उभाना-(हिं. क्रि. स.) सिर हिलाते हुए हाथ-पैर पटकना।
 उभार-(हिं. पुं.) उठान, जँचाई, वृद्धि, सूजन।
 उभारदार-(हिं. वि.) उन्नत, ऊँचा, निकला हुआ।
 उभारना-(हिं. क्रि. स.) उभाड़ना, उठाना, खोलना, निकालना, उड़ाना, चूराना, निकाल ले जाना, आग्रह करना, मिला लेना, पीछे पड़ना।
 उभिदना-(हिं. क्रि. अ.) वहरना, हकना, हिचकना।
 उभे-(हिं. वि.) देखें 'उभय'।
 उभंग-(हिं. स्त्री.) आह्लाद, इच्छा, लहर, मौज, पूर्णता, अविकता, उनाडुमजा।
 उभंगना-(हिं. क्रि. अ.) बढ़ना, प्रसन्न होना फूले न समाना।
 उभगा-(हिं. वि.) आह्लादित, इच्छुक।
 उभड़-(हिं. स्त्री.) चढ़ाव, उठान।
 उभड़ना-(हिं. क्रि. अ.) चढ़ना, बह चलना, आह्लादित होना, इकट्ठा होना, भरना, छा जाना।
 उभकना-(हिं. क्रि. अ.) उमड़ना, ऊपर को आना, उमड़ना, जड़ छोड़ देना।
 उभग, उभगत-(हिं. पुं.) देखें 'उभंग'।
 उभगना-(हिं. क्रि. अ.) उमड़ना, नरकर ऊपर को उठना, हलसना।
 उभचना-(हिं. क्रि. अ., स.) पैर से कुचलना, दबाना, हुसचना, चौकता होना, चकित होना।
 उभड़-(हिं. स्त्री.) बाट, उनाड़, नराव, धावा, बढ़ाव, घिराव।
 उभड़ना-(हिं. क्रि. अ.) उठकर फेंक जाना, चक्कर देना, फेंकना, घेरना, आगेम में आ जाना।
 उभड़ना-(हिं. क्रि. स.) फँसवाना, घिरवाना।
 उभदना-(हिं. क्रि. अ.) उगनाद में आना, मस्त होना, उत्तेजित होना, उठ सड़ा होना, उमड़ना।
 उभदा-(अ. वि.) देखें 'उभंग'।
 उभदाना-(हिं. क्रि. अ.) मरना होना, उभंग में जाना।
 उभर-(हिं. स्त्री.) उन्नत, उभयना, गय, आग्रह।
 उभर-(हिं. स्त्री.) अंतर्हित उस्ताव, जो नरको पानी न बरकने से पानी है।

उभयना-(हि. क्रि. अ.) उभय को गरमी पड़ना।

उभयना-(हि. क्रि. अ.) वह चलना, उत्तेजित होना, छा जाना, भावविभोर होना, उमंग में आना, उमड़ना।

उभयाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'उमड़ाना'।

उमा-(सं. स्त्री.) शिव की पत्नी, पार्वती, दुर्गा, अलसी, हलदी, क्रान्ति, कीर्ति, शान्ति, ब्रह्मविद्या।

उमाफना-(हि. क्रि. स.) जड़ से उखाड़ना, नष्ट करना, फेंकना।

उमाफिनी-(हि. वि.) उखाड़नेवाली।

उमाचना-(हि. क्रि. स.) उखाड़ना, निकालना, उमाड़ना, ऊपर को उठाना।

उमाद-(हि. पुं.) देखें 'उन्माद'।

उमाधव-(सं. पुं.) उमापति, शंकर।

उमापति-(सं. पुं.) पार्वती के पति, महादेव।

उमाह-(हि. पुं.) उत्सुकता, उत्साह, उमंग।

उमाहना-(हि. क्रि. अ.) वह चलना, उत्सुक होना, छटपटाना।

उमाहल-(हि. वि.) उत्साहयुक्त, उमंग से मरा हुआ।

उमेठन-(हि. स्त्री.) ऐंठन, बल, मरोड़।

उमेठना-(हि. क्रि. स.) मरोड़ना, ऐंठना।

उमेलना-(हि. क्रि. स.) उन्मीलन करना, प्रकट करना, खोलना।

उमेश-(सं. पुं.) उमापति, शिव।

उम्दगी-(अ. स्त्री.) अच्छाई, खूबी।

उम्दा-(अ. वि.) अच्छा, बढ़िया, उत्तम।

उम्मस-(हि. स्त्री.) पीड़ा।

उम्मीद-(फा. स्त्री.) आशा, अपेक्षा, आकांक्षा; -वार-(पुं.) अपेक्षा रखनेवाला, नौकरी या पद पर नियुक्त होनेवाला प्रत्यार्थी; (मुहा.)-से होना-गर्भवती होना।

उम्मेद, उम्मैद-(फा. स्त्री.) देखें 'उम्मीद'।

उरंग, उरंगम-(हि. पुं.) सर्प।

उर-(सं. पुं.) वक्षःस्थल, हृदय, छाती, मन, चित्त।

उरक्षत-(सं. पुं.) छाती का घाव, क्षयरोग।

उरफना-(हि. क्रि. अ.) ठिठकना, ठहरना, रकना।

उरग-(सं. पुं.) सर्प, साँप।

उरगड्डी-(हि. स्त्री.) जुलाहे की भूमि में छेद करने की छूटी।

उरगना-(हि. क्रि. अ., स.) सहन करना, स्वीकार करना।

उरगाव, उरगारि-(सं. पुं.) सर्पों का नमु, गरुड़, मोर।

उरगिनी-(सं. स्त्री.) सर्पिणी।

उरज-(हि. पुं.) देखें 'उरोज'।

उरजात-(हि. वि.) देखें 'उरोज'।

उरझना-(हि. क्रि. स.) उलझना, फँसना, गाँठ डालना।

उरझाना-(हि. क्रि. स.) फँसाना।

उरण-(सं. पुं.) भेड़ा, मेढ़ा, मेघ, बादल।

उरणफ-(सं. पुं.) देखें 'उरण'।

उरणी-(सं. स्त्री.) मेड़ी।

उरद-(हि. पुं.) एक पौधा जिसकी फलियों के दाने दाल बनाने के काम में आते हैं, उड़द।

उरदी-(हि. स्त्री.) माप, छोटा उड़द, सिपाहियों की पोशाक, वर्दी।

उरधारना-(हि. क्रि. अ.) छिटकाना।

उरमना-(हि. क्रि. अ.) झूमना, लटकना।

उरमाना-(हि. क्रि. स.) लटकाना, डालना।

उरमाल-(हि. पुं.) रमाल, अँगौछा।

उरला-(हि. वि.) पिछला, जो आगे का न हो।

उरखद-(सं. पुं.) कवच।

उरस-(हि. वि.) नीरस; (पुं.) हृदय, छाती।

उरसना-(हि. क्रि. अ.) चंचल होना, हिलना-डोलना, ऊपर-नीचे करना।

उरसाना-(हि. क्रि. स.) उद्वेग बढ़ाना।

उरसिज-(सं. पुं.) स्तन, औरतों की छाती।

उरसिल-(सं. वि.) चौड़ी छातीवाला।

उरस्त्राण-(सं. पुं.) उरखद।

उरस्य-(सं. वि.) उर में स्थित, पेट संबंधी, औरस।

उरस्थल-(सं. पुं.) हृदय, छाती।

उरहना-(हि. पुं.) उलाहना।

उराना-(हि. क्रि. अ.) चुक जाना।

उराव-(हि. पुं.) हृदय का उद्गार, अमिलापा, उमंग, उत्साह।

उराश-(हि. वि.) दीर्घ, बड़ा।

उराहना-(हि. पुं.) देखें 'उलाहना'।

उरिण-(हि. वि.) देखें 'उत्कृण'।

उरिन-(हि. वि.) देखें 'उत्कृण'।

उरु-(सं. वि.) विस्तीर्ण, फैला हुआ, बड़ा, अधिक मूल्यवान; (हि. पुं.) जंघा, जाँघ।

उरजना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'उलझना'।

उरताप-(सं. पुं.) अधिक उष्णता।

उरुत्व-(सं. पुं.) वृद्धि, बढ़ती।

उरुज-(अ. पुं.) उन्नति, उठान, बढ़ती।

उरे-(हि. अव्य.) उम और, आगे, दूर।

उरेखना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'अवरेखना'।

उरेह-(हि. पुं.) चित्रकारी, नक्काशी।

उरेहना-(हि. क्रि. स.) चित्र खींचना, रंग

भरना।

उरोज-(सं. पुं.) स्तन, पयोधर, कुच।

उर्णा-(सं. स्त्री.) भेड़ का बाल, ऊन।

उर्द-(हि. पुं.) देखें 'उरद'।

उर्दू-(हि. स्त्री.) सेना, सेना की हाट, फारसी-अरबी मिली हुई भाषा जो फारसी लिपि में लिखी जाती है।

उर्दू-बाजार-(हि. पुं.) फौजी हाट, बड़ी बाजार।

उर्ध्व-(हि. वि.) देखें 'ऊर्ध्व'।

उर्मि-(हि. स्त्री.) देखें 'ऊर्मि'।

उर्मिला-(सं. स्त्री.) लक्ष्मणजी की पत्नी का नाम।

उर्वर-(हि. वि.) उपजाऊ।

उर्वरा-(सं. स्त्री.) उपजाऊ भूमि, एक अप्सरा का नाम, घुंघराले बाल; (वि. स्त्री.) उपजाऊ।

उर्वशी-(सं. स्त्री.) स्वर्ग की एक वेश्या, एक परी का नाम।

उर्वी-(सं. स्त्री.) शीर्षक, सीस।

उर्विजा-(सं. स्त्री.) देखें 'उर्वीजा'।

उर्वी-(सं. स्त्री.) पृथ्वी, भूमि।

उर्वीजा-(सं. स्त्री.) सीताजी जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई थीं।

उर्वीधर-(सं. पुं.) पर्वत, शेषनाग।

उलंग-(हि. वि.) विना ढका हुआ, नंगा।

उलंघन-(हि. पुं.) देखें 'उल्लंघन'।

उलंघना-(हि. क्रि. स.) उल्लंघन करना, लांघना, डाँकना, स्वीकार न करना, टालना।

उलका-(हि. पुं.) देखें 'उल्का'।

उलचना-(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'उलीचना'।

उलछना-(हि. क्रि. अ., स.) छितराना, इधर-उधर फेंकना, बिखराना।

उलछा-(हि. पुं.) खेत में बीज बोने का काम।

उलझन-(हि. स्त्री.) अटकाव, फँसाव, गड़बड़ी, फेरवट, पेंच, व्यग्रता, चिन्ता, कलह, कठिनाता।

उलझना-(हि. क्रि. अ.) फँसना, कठिनाई में पड़ना, फँसना, अटकना, लिपटना, विलंब करना, काम में लगाना, गुंथ जाना, मोहित होना, प्रेमासक्त होना, अडचन में पड़ना, लड़ना-झगड़ना, टेढ़ा होना, काम में लीज होना।

उलझा-(हि. पुं.) देखें 'उलझन'।

उलझाना-(हि. क्रि. स.) फँसाना, गाँठ डालना, गड़बड़ मचाना, भ्रान्ति में डालना, झगड़ना, वाँधना, फट्टे में फँसाना, लीज दिखाना, मोहित करना, रखना, चित्त हटाना, वुरे मार्ग पर

लगाना, टेढ़ा करना, लिप्त करना, विवाह करना ।
 उलझाव-(हि. पुं.) फेरफार, फँसाव, चिन्ता, उत्पात, गड़बड़, कठिनाता, कलह, चक्कर, फेरवट ।
 उलझाव-(हि. वि.) उलझाने या फँसानेवाला ।
 उलट-(हि. पुं.) परिवर्तन ।
 उलटना-(हि. क्रि. अ.स.) ऊपर का नीचे होना, पलटना, फेर देना, चित्त करना, जीतना, वमन करना, उड़ेलना, विचारना, सोचना, अनुवाद करना, अस्वीकार करना, झूठा समझना, लौटाना, पीना, मतवाला करना, निर्बल करना, नाश करना, निर्धन होना, दोहराना, पढ़ने का बहाना करना, उमड़ना, विगड़ना, उन्मत्त होना, बदल जाना, दुर्विन आना, लौट आना, वात काटना, आज्ञा भंग करना, धमंड करना, अंडवंड करना, विपरीत करना, टूट पड़ना; -पलटना-(सं. क्रि. स.) फेरना-फारना, ऊपर-नीचे बदलना ।
 उलट-पलट, उलट-पुलट-(हि.पुं.) फेरफार, अव्यवस्था, गड़बड़ी ।
 उलट-फेर-(हि.पुं.) अदल-बदल, हेरफेर, परिवर्तन ।
 उलटा-(हि. वि.) विपरीत, नीचे का ऊपर किया हुआ; -पलटी-उलट-पलट; (मुहा.)-चला आना-जाकर तुरत लौट आना; -जमाना-अंधेर का जमाना, विपरीत स्थिति; -सौधा-विना क्रम का; -हाथ-बायाँ हाथ; -उलटीलोपड़ी का-अति मूर्ख; उलटी गंगा बहाना-अनहोनी बात करना; उलटी माला फेरना-बुरा चाहना; उलटी सौधी चुनाना-बुरी-रोटी कहना; उलटी साँस लेना-जल्दी-जल्दी साँस लेना, मरणासन्न होना; उलटी हुवा बहना-उलटी रीति चलना; उलटे छूरे से मूड़ना-मूर्ख बनाकर छगना ।
 उलटी-(हि. स्त्री.) वमन, कलैया ।
 उलटे-(हि. ग्रन्थ.) विरुद्ध क्रम से, विरुद्ध न्याय से ।
 उलथना-(हि. क्रि. व.स.) ऊपर-नीचे करना, उलट-पलट होना, उलटना ।
 उलथा-(हि. पुं.) अनुवाद, एक प्रकार का नाच जिसमें ताल पर उलठा जाता है, कलैया माने हुए पानी में कूदना, मरगट बदलना ।
 उलथाना-(हि. क्रि. म.) देवें 'उलटना' ।

उलद-(हि. स्त्री.) वर्षा की झड़ी, उड़ेल, गिराव ।
 उलदना-(हि. क्रि. स.) डालना, उड़ेलना, गिराना, डालना, अच्छा पानी बरसना ।
 उलमना-(हि. क्रि.स.) सहारा लेना, झुक पड़ना, लटक जाना ।
 उलरना-(हि. क्रि. स.) फाँदना, कूदना, नीचे-ऊपर होना, झपटना ।
 उलरथा-(हि.पुं.) वैलगाड़ी को उलरने या उलटने से रोकने के लिये पीछे बँधी हुई लकड़ी ।
 उललना-(हि. क्रि. अ.) गिरना-पड़ना, ढलना, इधर-उधर होना, पलटा जाना ।
 उलसना-(हि. क्रि. अ.) उल्लसित होना, चमकना ।
 उलहना-(हि. क्रि. अ.) अंकुरित होना, निकलना, फूटना, प्रफुल्लित होना, फूलना, उमड़ना; (पुं.) निन्दा ।
 उला-(हि. स्त्री.) भेड़ का बच्चा ।
 उलाटना-(हि. क्रि. स.) देखें 'उलटना' ।
 उलार-(हि. वि.) (गाड़ी-एनका इत्यादि) पीछे की ओर भार से दबा हुआ ।
 उलारना-(हि. क्रि. स.) ऊपर को फेंकना, उछालना, पीछे की ओर भार करना ।
 उलाहना-(हि. पुं.) उपालंम, निन्दा ।
 उल्लिचना, उल्लोचना-(हि. क्रि. स.) हाथ या किसी दूतरी वस्तु से जल फेंकना ।
 उल्लूक-(सं. पुं.) उल्लू चिड़िया, इन्द्र, ओखली, विष्णुमित्र का एक पुत्र, दुर्योधन का एक दूत ।
 उल्लूखल-(सं. पुं.) ओखली, गुग्गुलु ।
 उल्लेटना-(हि. क्रि. स.) देखें 'उलटना' ।
 उल्लेड़ना-(हि. क्रि. स.) उड़ेलना, ढरकाना, डारना ।
 उल्ले-(सं. स्त्री.) आह्लाद, उन्नति, उछल-कूद, वेग; (वि.) मूर्ख ।
 उल्ला-(सं. स्त्री.) प्रकाश, उजाला, तेज, मसाल, तेजपूज, आकाश से गिरी हुई अग्नि, दूतता तारा; -चक्र-(पुं.) उपद्रव, हलचल, गड़बड़, विघ्न; -पात-(पुं.) आकाश से तारे टूटना, विघ्न, आपत्ति; -पाती-(वि.) उपद्रव मचानेवाला; -मुल्ल-(पुं.) मूँह में आग फेंकनेवाला प्रेत; -मुनी-(स्त्री.) भृगाम्नी, लोमड़ी ।
 उल्ला-(हि. वि.) देवें 'उल्ला' ।
 उल्ल्या-(हि. पुं.) नागान्तर, अनुवाद ।
 उल्लवण-(सं. वि.) प्रवण, उद्घनट, अलस ।
 उल्लंघन-(सं. पुं.) अनिश्चय, लांघना, डाँकना, पार जाना, आज्ञा का पालन

न करना ।

उल्लंघना-(हि. क्रि.स.) अनिश्चय करना ।
 उल्लंघनीय-(सं. वि.) लांघने योग्य ।
 उल्लंघित-(सं. वि.) लांघा हुआ ।
 उल्लंघित-(सं. वि.) सीधा खड़ा हुआ ।
 उल्लसता-(सं. स्त्री.) प्रसन्नता ।
 उल्लसन-(सं. पुं.) हृष्यजनक व्यापार, रोमांच, रोवें जट्टे होना ।
 उल्लसित-(सं. वि.) फड़कनेवाला, उठा हुआ, आनन्दित ।
 उल्लाप-(सं. पुं.) शोक ।
 उल्लापन-(सं. पुं.) गमजाकर गल्लि की व्याख्या करना, ठहुरसोहानी ।
 उल्लापी-(सं. वि.) चिल्लानेवाला ।
 उल्लाप-(सं. पुं.) प्रेम अथवा हास्य विषयक नाटक जो स्वर्गीय घटना के आधार पर बनाया जाता है ।
 उल्लाल-(सं. पुं.) एक छन्द जिसके पहिले और तृतीय चरण में पन्द्रह तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरह मात्राएँ होती हैं ।
 उल्लाला-(हि.पुं.) एक छन्द-विशेष जिसके प्रत्येक चरण में तेरह मात्राएँ होती हैं ।
 उल्लास-(सं. पुं.) आनन्द, हर्ष, प्रकाश, चमक, रोगनी, उठान, मकड़ी, वृद्धि, एक काव्यालंकार जिसमें एक के गुण-दोष से दूसरे का गुण-दोष दर्शाया जाता है ।
 उल्लासक-(सं. वि.) आनन्द देनेवाला, आनन्दी ।
 उल्लासन-(सं. पुं.) प्रकट करना, आनन्दित होना, दीप्ति, चमक, नाच-बंद ।
 उल्लासना-(हि. क्रि. म.) प्रसन्न करना ।
 उल्लासित-(सं. वि.) प्रसन्न, उल्लासी, चमकदार, आनन्दी ।
 उल्लिखित-(सं. वि.) गोंदा हुआ, छिला हुआ, चिन्न बनाया हुआ, रेंगा हुआ, उठाया हुआ, ऊपर लिखा हुआ ।
 उल्लूकन-(सं. पुं.) अपने अनिष्टों को छिनाकर दूसरे रूप में प्रकट करना ।
 उल्लू-(हि. पुं.) उल्लू, यह पक्षी दिन में अगम रहता है; (जि.) मूर्ख; (मुहा.) -का पट्टा-बड़मूर्ख; -बनाना-बेवकफ बनाना, छगना; -बोचना-उलट जाना, बोगल होना ।
 उल्लेख-(सं. पुं.) निम्नता, कथन, किंत, वर्णन, वमन, मोटाई, एक काव्यालंकार जिसमें अनुवादात्मक और विरुद्ध के संदर्भ के अनुवाद पर दृष्टि का शोभ प्रकाश से वर्णन होता है ।
 उल्लेखन-(सं. पुं.) शोभा उल्ला-

रण, खोदाई, निर्देश, चित्रकारी ।
 उल्लेखनीय, उल्लेख्य—(सं. वि.) लिखनेयोग्य ।
 उल्व—(सं. पुं.) गन्नाशय की झिल्ली जिसमें
 बच्चा लिपटा हुआ रहता है, खेड़ी ।
 उवना—(हि. क्रि. अ.) उदित होना, निकल
 जाना ।
 उवनि—(हि. स्त्री.) उदय, निकास, उठाव ।
 उशीनर—(सं. पुं.) गन्धार देश ।
 उशीर—(सं. पुं.) शीत-मूलक, खस ।
 उपा—(सं. स्त्री.) वेद की एक देवी, प्रत्युप,
 सवेरा, वाण राजा की कन्या जो अनिरुद्ध
 को व्याही थी, अरुणोदय की लाली ।
 उपापति—(सं. पुं.) अनिरुद्ध ।
 उपीर—(सं. पुं.) देखें 'उशीर' ।
 उट्ट—(सं. पुं.) ऊँट ।
 उट्टपक्षी—(सं. पुं.) भूमि पर तीव्र गति से
 चलनेवाला एक पक्षी, शतुरमृगं ।
 उष्ण—(सं. वि.) तप्त, गरम, तीव्र; (पुं.)
 आतप, घूप, गरमी की ऋतु, अग्नि,
 जलन, सूर्य, ज्वर; -कटिवंध—(पुं.)
 पृथ्वी का वह भाग जो कक और मकर
 रेखाओं के बीच में पड़ता है; -कर—
 (वि.) गरम करनेवाला; -कारी—(पुं.)
 सूर्य; -काल—(पुं.) गरमी की ऋतु;
 -ता—(स्त्री.) आतप, गरमी; -त्व—
 (पुं.) देखें 'उष्णता'; -वाष्प—(पुं.)
 गरम भाप, आँसू ।
 उष्णांशु—(सं. पुं.) सूर्य ।
 उष्णा—(सं. स्त्री.) क्षयरोग, सन्ताप, गरमी ।
 उष्णिमा—(सं. स्त्री.) उत्ताप, गरमी ।
 उष्णोप—(सं. पुं.) पगड़ी, साफा, मुकुट ।
 उष्म—(सं. पुं.) ग्रीष्म काल, उत्ताप, घूप,
 तीव्रता, क्रोध, श, ष, स, ह—ये चार वर्ण ।
 उष्मज—(सं. वि.) गरमी में उत्पन्न होने-
 वाला; (पुं.) छोटे-छोटे कीड़े (मच्छड़,
 खटमल इ०) जो गरमी से उत्पन्न होते हैं ।
 उष्मता—(सं. स्त्री.) उष्णता, गरमी ।
 उष्मा—(सं. स्त्री.) ग्रीष्मकाल, गरमी की
 ऋतु ।
 उष्मान्वित—(सं. वि.) उत्तेजित, मड़का हुआ ।
 उस—(हि. सर्व.) 'वह' का रूप जो
 विभक्ति लगने से बनता है ।
 उसकन—(हि. पुं.) उवसन, पात्र मांजने
 का पास-पास का मुट्ठा, उमाड़, उठाव ।
 उसफना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'उकसाना' ।
 उसकाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'उकसाना' ।
 उसनना—(हि. क्रि. स.) उवालना, पकाना,
 पानी डालकर सिखाना ।
 उसरना—(हि. क्रि. अ.) सरकना, अलग
 होना, हूर होना, बीतना, पूरा होना,

मूल जाना, बनकर खड़ा होना ।
 उसोस—(हि. स्त्री.) देखें 'उसास' ।
 उसाना—(हि. क्रि. स.) पछोरना, फटकार-
 कर भूसी अलगाना ।
 उसारना—(हि. क्रि. स.) नाश करना,
 मिटाना, हटाना, टालना ।
 उसारा—(हि. पुं.) छत्ता, ओसारा ।
 उसालना—(हि. क्रि. स.) उखाड़ना, मिटाना,
 हटाना ।
 उसास—(हि. स्त्री.) उच्छ्वास, साँस,
 ऊपर को खींचा हुआ श्वास ।
 उसासना—(हि. क्रि. अ.) श्वास लेना, आह
 भरना ।
 उसासां—(हि. स्त्री.) श्वास लेने का समय ।
 उसिनना—(हि. क्रि. स.) देखें 'उसनना' ।
 उसीजना—(हि. क्रि. अ.) धीरे-धीरे पकना ।
 उसीर—(हि. पुं.) देखें 'उशीर' ।
 उसीसा—(हि. पुं.) सिरहाना, तकिया ।
 उसूल—(अं. पुं.) सिद्धान्त, मत ।
 उसेना—(हि. क्रि. स.) पकाना, उवालना ।
 उहदा—(हि. पुं.) देख 'ओहदा' ।
 उहदेदार—(हि. पुं.) पदाधिकारी ।
 उहवाँ, उहाँ—(हि. अव्य.) देखें 'वहाँ' ।
 उहार—(हि. पुं.) देखें 'ओहार' ।
 उहि—(हि. सर्व.) देखें 'वह' ।
 उही—(हि. सर्व.) देख 'वही' ।
 उहै—(हि. सर्व.) देखें 'वही' ।

ऊ

ऊ—संस्कृत तथा हिन्दी स्वर वर्ण का
 छठा अक्षर । यह 'उ' का दीर्घ
 रूप है, इसका उच्चारण-स्थान ओष्ठ
 है; (पुं.) महादेव, इन्द्र, रक्षक; (अव्य.)
 ए, अरे, भी; (सर्व.) वह ।
 ऊँख—(हि. स्त्री.) देखें 'ऊँख' ।
 ऊँग—(हि. स्त्री.) देखें 'ऊँघ' ।
 ऊँगा—(हि. पुं.) चौपायों का एक रोग ।
 ऊँगा—(हि. पुं.) अपामार्ग, चिचिड़ा ।
 ऊँघ—(हि. स्त्री.) ऊँघाई, झपकी, घुरे में
 लपेटी हुई सूत की गेंडुरी ।
 ऊँघन—(हि. स्त्री.) निद्रागम, झपकी ।
 ऊँघना—(हि. क्रि. अ.) झपकी लेना, निद्रा-
 गम होना, आँखें झिपना ।
 ऊँच—(हि. वि.) उच्च, ऊँचा ।
 ऊँच-नीच—(हि. वि.) छोटा-बड़ा, मला या
 घुरा, छोटी अथवा बड़ी जाति का ।
 ऊँचा—(हि. वि.) उच्च, श्रेष्ठ, उन्नत, उठा;
 हुआ; -नीचा—(वि.) मला-घुरा, बड़ा-
 छोटा; (मुहा.)—सुनना—गुच्छ बहिरा

होना;—सुनाना—खरी-खोटी सुनाना;
 ऊँची दुकान फीका पकवान्—विल्याति के
 अनुसार काम, गुण आदि न होना ।
 ऊँचाई—(हि. स्त्री.) उच्चता, गौरव,
 बड़ाई, श्रेष्ठता, उठान ।
 ऊँचे—(हि. अव्य.) ऊपर को, ऊँची
 ओर; (मुहा.)—नीचे पर पड़ना—घुरे काम
 में प्रवृत्त होना ।
 ऊँछ—(हि. पुं.) एक राग विशेष ।
 ऊँछना—(हि. क्रि. स.) बाल झाड़ना, कंधी
 करना ।
 ऊँट—(हि. पुं.) उष्ट्र, ऊँची गर्दन का वह
 चौपाया जो बोझ लादने और सवारी
 के काम में आता है; (मुहा.)—किस
 करवट बैठता है—मामले का नतीजा
 या परिणाम क्या होता है ।
 ऊँटकटारा, ऊँटकटीरा—(हि. पुं.) एक
 काँटेदार पौधा जो झाड़ियों में उगता है ।
 ऊँटगाड़ी—(हि. स्त्री.) ऊँट से खींची
 जानेवाली गाड़ी ।
 ऊँटनी—(हि. स्त्री.) मादा ऊँट ।
 ऊँटवान—(हि. पुं.) ऊँट हाँकनेवाला ।
 ऊँड़ा—(हि. पुं.) वह पात्र जिसमें भरकर
 रुपया-पसा, गहना इ० भूमि में गाड़ा
 जाता है; (वि.) गहरा ।
 ऊँदर—(हि. पुं.) इन्दुर, चूहा ।
 ऊँघा—(हि. वि.) आँघा, उलटा ।
 ऊँह—(हि. अव्य.) नहीं, कभी नहीं, यह
 नहीं हो सकता ।
 ऊँथना—(हि. क्रि. अ.) उदय होना, निक-
 लना, उगना ।
 ऊँथावाई—(हि. स्त्री.) निरर्थक वार्ता;
 (वि.) निरर्थक, अडबड़, व्यर्थ ।
 ऊँक—(हि. पुं.) उल्का, टूटता तारा, लुक;
 (स्त्री.) आग, लुआठी, जलन, ताप, चूक ।
 ऊँकना—(हि. क्रि. अ., स.) चूकना, मूलना,
 भ्रम में पड़ना, ताप देना, जलांन ।
 ऊँख—(हि. स्त्री.) इक्षु, ईख, गन्ना,
 गरमी, उमस; (वि.) गरमी से व्याकुल ।
 ऊँखल—(हि. पुं.) उलूखल, ओखली
 जिसमें अन्न की भूसी मूसल से कूटकर
 अलगाई जाती है ।
 ऊँगना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'उगना' ।
 ऊँगरा—(हि. पुं.) उवाला हुआ खाद्य पदार्थ ।
 ऊँचर—(हि. वि.) नीरस ।
 ऊँज—(हि. पुं.) उत्पात, उपद्रव, बखेड़ा ।
 ऊँजड़—(हि. वि.) जनशून्य, न वसा
 हुआ, उजाड़ ।
 ऊँजर—(हि. वि.) उजला, उजाड़ ।
 ऊँजरा—(हि. वि.) उजला, स्वच्छ ।

ऊटक-नाटक-(हि. पुं.) वृथा का कार्य, निरर्थक इधर-उधर करना, बेकाम का काम ।
 ऊटना-(हि. क्रि. अ.) सोचना, विचारना, मन बढ़ाना, उत्साहित होना, अस्मिमान करना, उमंग में आना ।
 ऊटपटांग-(हि. वि.) वेढंगा, व्यर्थ, निरर्थक, अंडवंड, टेढ़ा-मेढ़ा ।
 ऊड़ना-(हि. क्रि. स.) देखें 'ऊड़ना' ।
 ऊड़ा-(हि. पुं.) न्यूनता, कमी, घाटा, अकाल, विनाश ।
 ऊड़ी-(हि. स्त्री.) जुलाहे की फिरकी, डुवकी ।
 ऊड़-(सं. वि.) व्याहा हुआ, उठाया हुआ, पकड़ा हुआ, स्वीकार किया हुआ ।
 ऊड़ना-(हि. क्रि. स.) चिन्तन करना, अनुमान करना, सोचना, व्याह करना ।
 ऊड़ा-(सं. स्त्री.) भार्या, विवाहिता स्त्री, वह व्याही हुई स्त्री जो निज पति को छोड़कर अन्य पुरुष से प्रेम करती है ।
 ऊत-(सं. वि.) बुना हुआ, गुथा हुआ, सिला हुआ; (हि. वि.) पुत्रहीन, निःसन्तान, मूर्ख, गंवार; (पुं.) वह जो मरने पर पिंड आदि न पाकर प्रेत होता है ।
 ऊताताई-(हि. वि.) उजड़ड, अव्यवस्थित ।
 ऊद-(अं. पुं.) अगर का वृक्ष, ऊदविलाव ।
 ऊदवत्ती-(हि. स्त्री.) धूपवत्ती जो पूजा-भाठ के समय में धूप देने के लिए सुलगाई जाती है ।
 ऊदविलाव-(हि. पुं.) जल-स्थल दोनों में रहनेवाला नेवले के आकार का एक जन्तु ।
 ऊदल-(हि. पुं.) आल्हा के छोटे भाई जो महोत्र के राजा परमाल के मुख्य सरदार थे ।
 ऊदा-(हि. वि.) लाली मिला हुआ काले रंग का, बैंगनी; (पुं.) बैंगनी रंग का घोड़ा ।
 ऊदीसेम-(हि. स्त्री.) केंवाच ।
 ऊदम-(हि. पुं.) उत्पात, उपद्रव, वखेड़ा ।
 ऊदमी-(हि. वि.) उपद्रवी, उत्पाती ।
 ऊधव-(हि. पुं.) कृष्ण का सखा ।
 ऊधो-(हि. पुं.) देखें 'ऊधव' ।
 ऊन-(सं. वि.) छोटा, न्यून, कम, असंपूर्ण; (हि. पुं.) भेड़-बकरी का कोमल रोया जिससे कम्बल और पहिने के गरम कपड़े बने जाते हैं ।
 ऊनफ-(सं. वि.) छोटा, न्यून, हीन ।
 ऊनता-(हि. स्त्री.) न्यूनता, कमी ।
 ऊना-(हि. वि.) छोटा, कम, न्यून, सुच्छ, हीन ।
 ऊनित-(सं. वि.) घटाया या कम किया हुआ ।

ऊनी-(हि. वि.) ऊन का बना हुआ; (स्त्री.) घटी, कमी, उदासी, दुःख, खेद ।
 ऊप-(हि. पुं.) अनाज का सूद जो किसान महाजन को बोने के लिये अन्न लेने पर उसका सवाई देता है ।
 ऊपना-(हि. क्रि. स.) सूद पर (सवाई) अन्न का ऋण देना ।
 ऊपर-(हि. वि., अव्य.) उपरि, ऊंचे स्थान में, ऊँचाई पर, आगे, अधिक, पीछे, प्रतिकूल, अतिरिक्त, किनारे पर, उच्च कोटि में, सहारे पर, पहिले(पूर्वगत); (मुहा.)-ऊपर-दिखावटी रूप से; -को आमदनी-बेतन के अतिरिक्त इधर-उधर से मिला हुआ धन; -से-जाहिरा, प्रकट में ।
 ऊपरी-(हि. वि.) बहिरंग, बाहरी, बनावटी, अपरिचित, शिथिल, ढीला, दिखीवा, अयोग्य, ऊपर का, बाहर का, पराया ।
 ऊव-(हि. स्त्री.) व्यग्रता, घबड़ाहट, उद्वेग, अरुचि, उमंग ।
 ऊवट-(हि. पुं.) कठिन मार्ग; (वि.) ऊँचा-नीचा ।
 ऊवड़-खावड़-(हि. वि.) ऊँचा-नीचा, असमतल, अटपटा ।
 ऊवना-(हि. क्रि. अ.) उद्विग्न होना, उकताना, घबड़ाना, अकुलाना, घृणा करना ।
 ऊवर-(हि. वि.) अधिक ।
 ऊवरना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'उवरना' ।
 ऊभ-(हि. वि.) ऊँचा-नीचा, उठा हुआ, उमड़ा हुआ; (स्त्री.) व्याकुलता, घबड़ाहट, उमंग, उप्पा, गरमी, उमस, श्वास रोग ।
 ऊभना-(हि. क्रि. अ.) उद्विग्न होना, घबड़ाना, उठना, जल्दी-जल्दी सांस लेना ।
 ऊभर-(हि. वि.) देखें 'ऊवट' ।
 ऊभा-(हि. पुं.) पोखरी, गड्ढा ।
 ऊभा-साँसी-(हि. स्त्री.) उद्वेग, घबड़ाहट ।
 ऊभक-(हि. स्त्री.) उठान, उभाड़, वाड़, वेग, झपट ।
 ऊभना-(हि. क्रि. स.) उठना, बढ़ना, उमड़ना ।
 ऊभस-(हि. स्त्री.) देखें 'उभस' ।
 ऊभा-(हि. स्त्री.) जब या गेहूँ की हरी बाल ।
 ऊरज-(हि. वि.) देखें 'ऊर्ज' ।
 ऊरव-(हि. वि.) देखें 'ऊर्व' ।
 ऊरी-(हि. स्त्री.) जुलाहे की मलाला ।
 ऊर-(सं. पुं.) जानू, जाँघ ।
 ऊरग्राह-(सं. पुं.) उरस्तमन ।
 ऊरस्तमन-(सं. पुं.) पैर, बनिपा ।

ऊरस्तंभ-(सं. पुं.) वात का एक रोग जिसमें पैर जकड़ जाते हैं ।
 ऊर्त्त-(सं. वि.) बलिष्ठ, शक्तिमान्, बलवान्; (पुं.) बल, शक्ति, कार्त्तिक का महीना, उत्साह, निस्वास, जीवन, धीर्य, जल, एक काव्यालंकार जिसमें किसी के सहायकों की कमी हो जाने पर भी गर्व का त्याग न करना वर्णन किया जाता है ।
 ऊर्जवाह-(सं. पुं.) दाची के एक पुत्र का नाम ।
 ऊर्जस्विनी-(सं. स्त्री.) प्रियव्रत की कन्या का नाम ।
 ऊर्जस्वी-(सं. पुं.) एक अलंकार जिसमें अतिशय अहंकार दर्शाया जाता है; (वि.) अति बलवान्, तेजस्वी, पराक्रमी ।
 ऊर्जा-(सं. स्त्री.) बल, उत्साह, वृद्धि ।
 ऊर्ण-(सं. पुं.) भेड़ या बकरी का बाल, ऊन ।
 ऊर्णपट-(सं. पुं.) लूता, मकड़ा ।
 ऊर्णा-(सं. स्त्री.) चित्ररथ गन्धर्व की पत्नी ।
 ऊर्दर-(सं. पुं.) वीर, बहादुर, योद्धा ।
 ऊर्व-(सं. वि.) उच्च, ऊँचा, ऊपरी, छोड़ा हुआ; (पुं.) ऊँचाई, उच्चता ।
 ऊर्वकर्ण-(सं. वि.) गर्दन उठाये हुए, कान खड़ा किये हुए ।
 ऊर्वकर्म-(सं. पुं.) मृत व्यक्ति के निमित्त किया जानेवाला श्राद्ध इत्यादि ।
 ऊर्वकाय-(सं. वि.) उन्नत शरीरवाला ।
 ऊर्वकेतु-(सं. वि.) उड़ती हुई ध्वजावाला ।
 ऊर्वकेश-(सं. वि.) जिसके बाल खड़े हों ।
 ऊर्वक्रिया-(सं. स्त्री.) ऊर्वकर्म ।
 ऊर्वंग-(सं. वि.) स्वर्गगामी, ऊँचा जानेवाला ।
 ऊर्वंगत-(सं. वि.) ऊार गया हुआ ।
 ऊर्वंगति-(सं. स्त्री.) नड़ाई, स्वर्गारोहण, मुक्ति ।
 ऊर्वंगमन-(सं. पुं.) देखें 'ऊर्वंगति' ।
 ऊर्वंगामी-(सं. वि.) ऊार जानेवाला, मुक्ता ।
 ऊर्वचरण-(सं. पुं.) भूमि में निर गगार तथा पैर ऊपर उठाकर तपस्या करनेवाला साधु ।
 ऊर्वता-(सं. स्त्री.) उच्चाता, उगेता ।
 ऊर्वतिपत-(सं. पुं.) निराश्रयता ।
 ऊर्वदृष्टि-(सं. वि.) ऊर्वदृष्टि, जैसे आदर पर दृष्टि रखनेवाला; (स्त्री.) ऊँची दृष्टि ।
 ऊर्वद्वेष-(सं. पुं.) ऊपरी भाव ।
 ऊर्वदेह-(सं. पुं.) मरण के बाद प्राण होनेवाला शरीर ।
 ऊर्वद्वार-(सं. पुं.) देहाभ्यास, मत्तमभ्यास ।

अध्वपथ—(सं. पुं.) ऊपरी मार्ग, आकाश।
 अध्वपुंज—(सं. पुं.) चन्दन आदि से मस्तक पर लगाया हुआ लम्बा तिलक।
 अध्ववाहु—(सं. पुं.) वह साधु जो सर्वदा अपना एक या दोनों हाथ ऊपर को उठाये रहता है।
 अध्वभाक्—(सं. पुं.) बड़वानल।
 अध्वमुख—(सं. पुं.) अग्नि; (वि.) उन्नत, मुख ऊपर किया हुआ।
 अध्वरेखा—(सं. स्त्री.) चरण की वह रेखा जो अंगूठे या उसके पास की अँगुली से बारम्बार होकर एड़ी तक पहुँचती है, (जिसको यह रेखा होती है वह अंशा-वतारी समझा जाता है। हाथ में भी पूर्ण या अपूर्ण मणिवन्ध से निकलकर ऊपर जाती है।)
 अध्वरेता—(सं. पुं.) महादेव, भीष्म, हनुमान, सनकादि मुनि, संन्यासी; (वि.) जो वीर्य को कभी न गिराता हो, पूर्ण ब्रह्मचारी।
 अध्वरोना—(सं. वि.) जिसके रोंगटे खड़े हों।
 अध्वर्लिंग—(सं. पुं.) महादेव।
 अध्वर्लोक—(सं. पुं.) स्वर्ग, वैकुण्ठ, आकाश।
 अध्वर्शाथी—(सं. वि.) उतान सोने-वाला; (पुं.) महादेव।
 अध्वर्श्वास—(सं. पुं.) लंबी साँस, मरते समय का श्वास।
 अध्वर्स्थित—(सं. वि.) ऊपर रहनेवाला।
 अध्वर्ग—(सं. पुं.) मस्तक, सिर।
 अध्वि—(सं. स्त्री.) तरंग, लहर, उभाड़, प्रकाश, वेग, मंग, भ्रान्ति, मूल, समूह, शीघ्रता, पीड़ा, कष्ट, वेदना, उत्कण्ठा, छ की संख्या, घोड़े की लहरिया चाल, (जोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा और प्यास को अध्वि कहते हैं)।
 अध्विका—(सं. स्त्री.) अँगूठी, मोरे का गुंजन।
 अध्विमाली—(सं. पुं.) समुद्र।
 अध्विला—(सं. स्त्री.) सीताजी की वहिन और लक्ष्मण की पत्नी।
 अध्वरा—(सं. वि.) देवों 'उर्वरा'।
 अध्वशी—(सं. स्त्री.) देवों 'उर्वशी'।
 अध्वस्थि—(सं. पुं.) जाँघ को हड्डी।
 अध्वर्ग—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की चाय।
 अध्वर्जल—(हि. वि.) ऊटपटांग, अ-गम्यद्ग, वैसिर-पैर का, असम्य, मूर्ख, गंधार, अगिष्ट।
 अध्वर्ग—(हि. क्रि. अ.) उड़ाना।
 अध्वर—(हि. स्त्री.) काश्मीर की एक शील का नाम।
 अध्वर—(सं. पुं.) देवों 'उध्वर'।

अध्वकाल—(सं. पुं.) अरुणोदय, सवेरा।
 अध्व—(सं. पुं.) खारी मिट्टी, कान का छेद, तड़का।
 अध्वक—(सं. पुं.) प्रत्युष समय, सवेरा।
 अध्वर—(सं. पुं.) नोनी भूमि, रेह की भूमि, ऊसर।
 अध्वरा—(सं. स्त्री.) अरुणोदय, सवेरा, पौ फटने का समय, अनिरुद्ध की पत्नी जो वाणासुर की कन्या थी।
 अध्वर—(सं. पुं.) गरमी, ग्रीष्म काल, धूप, भाप; (वि.) गरम।
 अध्ववर्ण—(सं. पुं.) श, प, स और ह—ये चार अक्षर व्याकरण में अध्व कहलाते हैं।
 अध्वमांतःस्थ—(सं. पुं.) अर्धस्वर, जो पूरा न हो।
 अध्वमा—(सं. स्त्री.) गरमी, ग्रीष्मकाल, तपन।
 अध्वर—(हि. पुं.) वह भूमि जो नोनी हो, जिसमें रेह हो और जिसमें अन्न न उत्पन्न होता हो।
 अध्व—(सं. पुं.) उत्पत्ति, तर्क, परीक्षा, आरोप; (हि. अव्य.) विस्मयादि-सूचक शब्द, क्लेशसूचक शब्द।
 अध्वन—(सं. पुं.) तर्क-वितर्क, वाद।
 अध्वपोह—(सं. वि.) तर्क द्वारा संशय मिटाया हुआ, वैधक दान देनेवाला।
 अध्वहित—(सं. वि.) तर्क किया हुआ, छिपा हुआ, अनुमान किया हुआ।

ऋ

ऋ-स्वर वर्ण का सातवाँ अक्षर, मूर्धास्थान से इसका उच्चारण होता है; (सं. स्त्री.) देवमाता, अदिति, निन्दा, प्राप्ति; (अव्य.) हँसी, ठिठोली।
 ऋक्—(सं. स्त्री.) ऋग्वेद, ऋग्वेदोक्त मन्त्र, स्तुति, पूजा।
 ऋक्य—(सं. पुं.) वन, सुवर्ण, उत्तरा-धिकार में मिली हुई सम्पत्ति।
 ऋक्ष—(सं. पुं.) नक्षत्र, तारा, राशि, भालू।
 ऋक्षजिह्व—(सं. पुं.) एक प्रकारका कुण्ड रोग।
 ऋक्षनाथ—(सं. पुं.) चन्द्र, चन्द्रमा।
 ऋक्षनेमि—(सं. पुं.) विष्णु।
 ऋक्षपति—(सं. पुं.) ऋक्षनाथ।
 ऋक्षराज—(सं. पुं.) चन्द्रमा।
 ऋक्षवान्—(सं. पुं.) ऋक्षपर्वत जो नर्मदा नदी के किनारे से गुजरात तक फैला है।
 ऋक्षेश—(सं. पुं.) चन्द्रमा।
 ऋग्वेद—(सं. पुं.) चारों वेदों में से पहला वेद।
 ऋग्वेदी—(सं. वि.) ऋग्वेद का पढ़ने-वाला या जाननेवाला।
 ऋचा—(सं. स्त्री.) वेदमन्त्र, स्तुति, पूजा।

ऋच्छ—(हि. पुं.) देवों 'ऋक्ष'।
 ऋच्छका—(सं. स्त्री.) अभिलाषा, इच्छा।
 ऋजीक—(सं. वि.) मिला हुआ, विगाड़ा हुआ, विगड़ा हुआ; (पुं.) इन्द्र, घुर्वा।
 ऋजु—(सं. वि.) सीधा (जो टेढ़ा न हो), सरल, अनुकूल, प्रसन्न, सुन्दर, सुगम; (पुं.) वसुदेव के एक पुत्र का नाम।
 ऋजुता—(सं. स्त्री.) सरलता, सीधापन, सुगमता, सचाई।
 ऋजुनीति—(सं. स्त्री.) सीधी चाल।
 ऋजुहस्त—(सं. वि.) हाथ फैलाया हुआ।
 ऋण—(सं. वि.) उवार, गणित में क्षय राशि; (क्रि. प्र.)—उतारना—ऋण मुक्त होना;—पटाना—लिया हुआ ऋण चुका देना।
 ऋणकर्ता—(सं. वि.) ऋण लेनेवाला।
 ऋणग्रस्त—(सं. वि.) बहु ऋणयुक्त, ऋण से लदा हुआ।
 ऋणग्रह—(सं. पुं.) ऋण लेनेवाला।
 ऋणग्राहक—(सं. वि.) ऋण लेनेवाला।
 ऋणद—(सं. वि.) ऋण चुकानेवाला।
 ऋणदाता, ऋणदायक—(सं. वि.) ऋण देनेवाला।
 ऋणमुक्त—(सं. वि.) कर्ज अदा किया हुआ।
 ऋणमुक्ति—(सं. स्त्री.) ऋण-परिशोधन।
 ऋणमोक्ष—(सं. पुं.) ऋण से छुटकारा।
 ऋणशुद्धि (सं. स्त्री.): ऋणशोधन—(सं. पुं.) ऋण चुकाना।
 ऋतंभर—(सं. वि.) सचाई रखनेवाला; (पुं.) परमेश्वर।
 ऋतंभरा—(सं. स्त्री.) बुद्धि, ज्ञान।
 ऋत—(सं. पुं.) सत्य, सचाई, व्यवस्था, धर्मनीति, सूर्य; (वि.) सत्य, पूजित।
 ऋतवामा—(सं. पुं.) विष्णु, परमेश्वर; (वि.) शुद्ध प्रकृतिवाला।
 ऋतस्पति—(सं. पुं.) यज्ञपति, वायु।
 ऋति—(सं. स्त्री.) कल्याण, भलाई, आक्रमण, रीति।
 ऋतु—(सं. स्त्री.) कालविशेष, गरमी, बरसात या जाड़े का दिन, हिम, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा और शरत्—ये छः ऋतुएँ हैं, स्त्रीरज, चमक;—कर—(सं. पुं.) महादेव, शंकर;—काल—(सं. पुं.) ऋतु का समय, स्त्री के रजो-दर्शन की पहली रात्रि से सोलहवीं रात्रि तक का काल;—गमन—(सं. पुं.) ऋतुकाल में स्त्री से सम्मोग;—गामी—(सं. वि.) ऋतुकाल में स्त्री-सम्मोग करनेवाला;—चर्या—(सं. स्त्री.) ऋतुओं के अनुसार आहार-

विहार का आचरण; -मती-(सं. स्त्री.) रजस्वला स्त्री; -मुख-(सं. पुं.) पूर्ण चान्द्र मास का पहिला दिन; -राज-(सं. पुं.) वसन्त काल; -वती-देखें 'ऋतुमती'; -विषय- (सं. पुं.) ऋतु का उलट-पलट; -संधि-(सं. पुं.) दो ऋतुओं के मिलन का काल; -समय-(सं.पुं.) देखें 'ऋतुकाल'; -स्नाता-(सं. स्त्री.) ऋतुकाल के चौथे दिन स्नान करनेवाली स्त्री; -स्नान-(सं.पुं.) रजोदर्शन के चौथे दिन किया जानेवाला स्नान।

ऋत्विक्-(सं. पुं.) पुरोहित, वेद के मंत्रों से यज्ञ में कर्मकाण्ड करनेवाला।

ऋत्विज-(सं. पुं.) देखें 'ऋत्विक्'।

ऋद्ध-(सं. वि.) सम्पन्न, समृद्ध, धनी।
ऋद्धि-(सं. पुं.) वृद्धि, बढ़ती, समृद्धि, सिद्धि, वैद्यक में कहीं हुई अण्डवर्ग के अन्तर्गत एक औषधि।

ऋद्धि-सिद्धि-(सं. स्त्री.) सुख-सम्पत्ति, समृद्धि और सफलता-ये गणेशजी की दासियाँ कही गई हैं।

ऋभु-(सं. पुं.) यज्ञदेवता, देवगण विशेष।
ऋषभ-(सं.पुं.) वृषभ, बैल, (कुछ शब्दों के पीछे लगने से श्रेष्ठता सूचित करता है), गायन में सात स्वरों में से दूसरा, एक औषधि विशेष।

ऋषि-(सं. पुं.) शास्त्रप्रणेता, वेद-मन्त्रों का प्रकाशन, ज्ञान द्वारा संसार पार करनेवाला; -तर्पण-(पुं.) ऋषियों को दी जानेवाली श्रद्धाञ्जलि; -पंचमी-(स्त्री.) भाद्रपद शुक्ला पंचमी का व्रत।

ऋष्यमूक-(सं. पुं.) भारतवर्ष के दक्षिण का एक पर्वत जिसका वर्णन रामायण में किया गया है।

ऋष्यशृंगा-(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम, (ये विभाण्डक के पुत्र थे।)

ए

ए-स्वर वर्ण का ग्यारहवाँ अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ और तालु है; (पुं.) विष्णु; (हि. सर्व.) यह; (अव्य.) संवोधन या बुलाने में प्रयुक्त होता है।

ऐच-(हि. स्त्री.) न्यूनता, कमी, विलम्ब।

ऐचना-(हि. कि. स्त.) लिखना, लगीर पीचना, निकालना, लेना, रचना, सुनाना, लगाना।

ऐच-पेच-(हि. पुं.) हेर-फेर, उलटन,

घुमाव, टेढ़ी चाल।

ऐचाताना-(हि.वि.) तिरछा देखनेवाला।

ऐचातानी-(हि. स्त्री.) कठिनता, खींच-खाँच, कलह, युद्ध।

ऐङ्गवेड़ा-(हि. वि.) उलटा-मुलटा, अंड-वंड, जँघानीवा।

ऐङ्गी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का रेशम का कीड़ा जो रेंड के पत्ते खाता है, इस कीड़े से निकला हुआ रेशम, अंडी।

ऐङ्गुआ-(हि. पुं.) सिर पर बोल के नीचे रखने की कपड़े की गद्दी, बिहुआ, गेंडुरी।

ऐकंग-(हि. वि.) एकाकी, अकेला।

ऐकंगा-(हि. वि.) एक ही दिशा में रहनेवाला।

ऐकंगी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का गदका।

एक-(सं. वि.) प्रधान, अद्वितीय, सच्चा, समान, केवल, अकेला, अन्य, थोड़ा, बराबर, पहिला, कोई; (पुं.) पर-मेश्वर, पहला अंक, १; (मुहा.)

-अनार सौ बीमार-बोड़ी सी चीज पर बहुत से खानेवाले; -आँख से सब को देखना-एक-सा मानना या व्यवहार करना; -एक-(वि.) हरेक, प्रत्येक;

(अव्य.) एक के बाद एक; -एक करके-क्रम से, एक के बाद दूसरा; -और एक ग्यारह होते हैं-दो के मेल से शक्ति आती है; -कलम-एक

वारगी, बिलकुल, पूरे तौर पर; -की चार लगाना-बहुत सा झूठ-सच कहकर जोड़ना; -कै दस सुनाना-एक कड़ी बात के बदले दस कड़ी बातें सुनाना;

-चना भाँड नहीं फोड़ सकता-अकेला आदमी बहुत कुछ करने में असमर्थ होता है; -चने की ढाल-बिलकुल

एक सा; -टक-टकटकी बाँध कर; -तदे की रोटी-एक घराने के व्यक्ति;

-तार-सदृश, समान, तुल्य; -थंलो के चट्टे-चट्टे-दो व्यक्तियों का एकसा मिजाज या स्वभाव होना; -तो-पहिली तो यह है कि; -दम-नुरत, बिलकुल;

-दिल होना-अच्छी तरह से मिल जाना; -दूसरे को-गारस्त, आपस में; न चलना-सफलता प्राप्त न करना;

-पंच दो काज-एक उपाय से दो काम सिद्ध होना; -पेट के-सहोदर;

-बात-बयाँप बात, पक्की बात; -राय-(हि. स्त्री.) एकमति; -से एक-एक से एक बटकर; -से दो होना-ब्याह होना या करना; -होना-मिल जाना।

एकक-(सं. वि.) असहाय, अकेला।

एककालीन-(सं. वि.) समकालीन, एक ही समय उत्पन्न होनेवाला।

एकचक्र-(सं. पुं.) सूर्य का रथ, एकअनुर का नाम; (वि.) चक्रवर्ती।

एकचर-(सं. पुं.) गंडा; (वि.) अकेला घूमनेवाला, एक ही अनुचरवाला।

एकचरण-(सं.पुं.) एक पैरवाला मनुष्य; (वि.) एक पैरवाला।

एकचर्या-(सं.स्त्री.) अकेले चलने की स्विति।

एकचारिणी-(सं. स्त्री.) पतिव्रता स्त्री।

एकचारी-(सं. वि.) अकेला चलनेवाला।

एकचितन-(सं. वि.) एक ही विषय पर ध्यान रखनेवाला।

एकचित-(हि. वि.) देखें 'एकचित्त'।

एकचित्त-(सं. वि.) अनन्यचेता, एक ही ओर ध्यान लगानेवाला।

एकचित्तता-(सं.स्त्री.) ध्यान की स्थिरता।

एकचोवा-(हि. पुं.) एक ही जंमे के सहारे खड़ा होनेवाला तंबू।

एकछत्र-(सं. वि.) बिना दूसरे मालिक का, अभिन्न शासन का; (पुं.) अनन्य शासन, जहाँ पूरी आज्ञा एक ही राजा की होती है; (अव्य.) एक को आज्ञापर।

एकज-(सं. वि.) अकेला उत्पन्न होनेवाला, निराला, एकही; (पुं.) शूद्र, राजा

एकजन्मा-(सं. पुं.) राजा, शूद्र।

एकजात-(सं. वि.) सहोदर, एक ही माँ-बाप से उत्पन्न, एक ही वस्तु से उत्पन्न।

एकजाति-(सं. वि.) समान जातिवाला, एक वंश में उत्पन्न होनेवाला।

एकजातीय-(सं. वि.) एक ही जाति से सम्बन्ध रखनेवाला।

एकज्या-(सं. स्त्री.) किसी वृत्त के व्यासार्ध का चिह्न।

एकटंगा-(सं. पुं.) एक पैर लँगड़ा।

एकटणी-(हि. स्त्री.) निम्नलक्ष्मिटाटणी।

एकट्ठा-(हि. वि.) एकत्र, जमा किया हुआ।

एकडाल-(हि. वि.) अमिठ; (पुं.) यह छुरा जिसका फल और दँट एक ही लोहे के टुकड़े से बनी होती है।

एकतः-(सं. अव्य.) एक पक्ष में, एक ओर से, अकेले।

एकतरा-(हि. पुं.) एक दिन के अन्तर पर घानेवाला ज्वर।

एकता-(सं. स्त्री.) मेल, मेलजोल, परा-बरी, ममानना, एकजिन्ता।

एकतान-(सं. वि.) एक ही नाम में निरत समाप्ति हुए, एकात्मित, समान, मेल; (पुं.) स्वर और ताप से एकात्मित, मेल-

वजाने का मेल ।
 एकतारा—(हि. पुं.) एक तारवाला
 सितार के समान वाजा ।
 एकताल—(सं. वि.) गीत-वाद्य के सुरीला-
 पन से युक्त ।
 एकताला—(हि. पुं.) एक ही ताल का
 गाना-वजाना जिसमें दूसरे ताल की
 आवश्यकता न हो ।
 एकतालीस—(हि. वि.) चालीस और एक;
 (पुं.) चालीस और एक की संख्या, ४१ ।
 एकतीस—(हि. वि.) तीस और एक;
 (पुं.) तीस और एक की संख्या, ३१ ।
 एकत्र—(सं. वि., अव्य.) समवेत, एक ही
 स्थान में, एक साथ, मिल-जुलकर ।
 एकत्रित—(सं. वि.) इकट्ठा किया हुआ ।
 एकत्व—(सं. पुं.) एकता, मेल, बराबरी,
 एकाई ।
 एकदंत—(सं. पुं.) गणेशजी ।
 एकदंष्ट्र—(सं. पुं.) देखें 'एकदंत' ।
 एकदरा—(हि. पुं.) वह दालान जिसमें
 एक ही द्वार हो ।
 एकदस्ती—(फा. स्त्री.) कुश्ती की एक युक्ति ।
 एकदा—(सं. अव्य.) एक ही समय, एक
 बार, किसी दिन ।
 एकदृष्टि—(सं. स्त्री.) एक ही पदार्थ पर
 स्थिर दृष्टि; (वि.) काना; (पुं.) कौवा ।
 एकदेव—(सं. पुं.) परमेश्वर ।
 एकदेश—(सं. पुं.) एक स्थान ।
 एकदेशी, एकदेशीय—(सं. वि.) एक
 देशवासी, जो सर्वत्र व्यापक न हो, एक
 ही अवसर के लिए होनेवाला ।
 एकधर्मो—(सं. वि.) समान धर्मवाला ।
 एकघा—(सं. अव्य.) साधारण रूप से
 एक-सा या कए जैसा ।
 एकनयन—(सं. वि.) एकाक्ष, काना;
 (पुं.) कुवेर, कौवा
 एकनिष्ठ—(सं. वि.) एकासक्त, एक ही
 म लीन ।
 एकनेत्र—(हि. वि.) देखें 'एकनयन' ।
 एकपक्ष—(सं. वि.) एक ही पक्षवाला,
 पक्षपाती ।
 एकपक्षीय—(सं. वि.) एक तरफा ।
 एकपटा—(हि. वि.) एक ही पाटवाला,
 बिना जोड़ का ।
 एकपतिका—(सं. स्त्री.) एकही पति की स्त्री ।
 एकपत्नी—(सं. स्त्री.) पतिव्रता स्त्री, सपत्नी ।
 एकपद—(सं. वि.) एक पैरवाला; (पुं.)
 नाधारण मध्य, वैकुण्ठ ।
 एकपदी—(सं. वि., स्त्री.) एक-पदात्मक
 छन्द, एक पगडंडी ।

एकपिंड—(सं. वि.) सपिण्ड, नातेदार ।
 एकपुत्र—(सं. वि.) जिसको एकही बेटा हो ।
 एकपुष्प—(सं. पुं.) प्रवान पुरुष, परमेश्वर ।
 एकप्रभुत्व—(सं. पुं.) साम्राज्य ।
 एक-त्र-एक—(हि. अव्य.) अकस्मात्,
 अचानक, यकायक ।
 एकवद्वी—(हि. स्त्री.) एक परत की रस्सी ।
 एकभार्या—(सं. स्त्री.) साध्वी, पतिव्रता स्त्री ।
 एकभाव—(सं. पुं.) समभाव, एकरूप,
 एक स्वभाव, अभेद, बराबरी; (वि.)
 एक प्रकृतिवाला ।
 एकभुवत्—(सं. वि.) दिन-रात में एक
 ही वार भोजन करनेवाला ।
 एकभूत—(सं. वि.) अविभक्त, मिला हुआ ।
 एकमत, एकमति—(सं. वि.) एक
 रायवाला, समान मत का ।
 एकमात्र—(सं. वि.) एक मात्रा का, अकेला ।
 एकमुहूर्त—(हि. वि.) केवल एक मुखवाला ।
 एकमुख—(सं. वि.) एक मुखवाला, एक
 मुँहा ।
 एकरंग—(हि. वि.) तुल्य, बराबर,
 स्वच्छ हृदय का, चारों ओर समान ।
 एकरदन—(सं. पुं.) एकदन्त, गणेश ।
 एकरस—(सं. वि.) एक ढंग का, समान ।
 एकरात्रिक—(सं. वि.) एक रात में होनेवाला ।
 एकरूप—(सं. वि.) समान आकृति का,
 एक ही ढंग का ।
 एकरूपता—(सं. स्त्री.) तुल्यता, बराबरी,
 सायुज्य मुक्ति ।
 एकरूपी—(सं. वि.) समान रूप का ।
 एकलंगा—(हि. पुं.) कुश्ती का एक दाँव ।
 एकलव्य—(सं. पुं.) निपादराज, हिरण्य-
 धेनु के पुत्र ।
 एकालिग—(सं. पुं.) महादेव, कुबेर, एक-
 लिग का मन्दिर जो उदयपुर राज्य में है ।
 एकलौता—(हि. वि.) अपने माता-पिता
 का एक (पुत्र) ।
 एकवचन—(सं. पुं.) एक व्यक्ति का
 वचन करनेवाला व्याकरण का वचन ।
 एकवर्ण—(सं. पुं.) एक वर्ण या जाति का,
 एक-सा ।
 एकवाँज—(हि. स्त्री.) जिस स्त्री को एक
 ही सन्तान हुई हो ।
 एकवाक्य—(सं. पुं.) एक अर्थबोधक
 वाक्य, राय की बात ।
 एकवाक्यता—(सं. स्त्री.) वाक्य का ऐक्य,
 मेल की बातचीत ।
 एकवाद्या—(सं. स्त्री.) टाइन, चुड़ैल ।
 एकविच—(सं. वि.) एक ही प्रकार का,
 साधारण ।

एकवेणी—(सं. स्त्री.) वियोगिनी की लट,
 वह स्त्री जिसका पति दूर देश में गया
 हो, विधवा ।
 एकश्रृंग—(सं. पुं.) एक सींगवाला पशु, विष्णु ।
 एकसठ—(हि. वि.) साठ और एक;
 (पुं.) साठ और एक की संख्या, ६१ ।
 एकसर—(हि. वि.) अकेला, एकहरा ।
 एकस्थ—(सं. वि.) एक स्थान में रक्खा हुआ ।
 एकहत्तर—(हि. वि.) सत्तर और एक;
 (वि.) सत्तर और एक की संख्या, ७१ ।
 एकहत्या—(हि. वि.) एक ही हाथ से
 काम करनेवाला ।
 एकहरा—(हि. वि.) एक परत का, जो
 दोहरा न हो, एक लड़ी का; एकहरे
 शरीर का—दुबला-पतला ।
 एकांग—(सं. पुं.) बुध ग्रह ।
 एकांत—(सं. पुं.) छिपा हुआ स्थान,
 अकेलापन; (वि.) अकेला, अत्यन्त
 निराला, निर्जन, सूना ।
 एकांतकैवल्य—(सं. पुं.) जीवनमुक्ति ।
 एकांतचारी—(सं. वि.) निर्जन स्थान में
 घूमनेवाला ।
 एकांतता—(सं. स्त्री.) निर्जनता, अकेलापन ।
 एकांतर—(सं. वि.) एक दिन के अंतरे का ।
 एकांतवास—(सं. पुं.) निर्जन स्थान में
 बिना किसी साथी के रहना ।
 एकांतवासी—(सं. वि.) एकांत में निवास
 करनेवाला ।
 एकांतविहारी—(सं. वि.) अकेला घूमने-
 वाला, एकांतचारी ।
 एकांतिक—(सं. वि.) फलस्वरूप, अन्तिम ।
 एकांती—(सं. पुं.) वह भक्त जो एकांत
 में बैठकर विष्णु को भजता है, एक ही
 को माननेवाला ।
 एकांश—(सं. पुं.) एक भाग या हिस्सा ।
 एका—(सं. स्त्री.) दुर्गा; (वि.) अद्वितीय,
 अकेला; (हि. पुं.) ऐक्य, मेलजोल ।
 एकाई—(हि. स्त्री.) एकत्व, एक का
 मान, नियमित मान, गणना में प्रथम
 स्थान या श्रंक, इकाई ।
 एकाएक, एकाएकी—(हि. अव्य.) अक-
 स्मात्, अचानक ।
 एकाकार—(सं. वि.) एक ही आकृति का ।
 एकाकी—(सं. वि.) असाहाय, अकेला ।
 एकाक्ष—(सं. वि.) एक नेत्रवाला, काना;
 (पुं.) कौवा, शूनाचार्य ।
 एकाक्षर—(सं. पुं.) एक-स्वर वर्ण, ओंकार ।
 एकाक्षरी—(सं. वि.) एक अक्षरवाला;
 -कोश—(पुं.) वह कोश जिसमें प्रत्येक
 अक्षर के अलग-अलग अर्थ लिखे हों ।

एकाग्र—(सं. वि.) अनन्यचित्त, एक ही ओर मन लगाया हुआ, जो व्यग्र या चंचल न हो, एक ही कोन या कोर का।
 एकाग्रचित्त—(सं. वि.) स्थिरचित्त, एक ही ओर मन लगाये हुए।
 एकाग्रता—(सं. स्त्री.) एक ही विषय में आसक्ति, मन का स्थिर होना।
 एकाग्रत्व—(सं. पुं.) देख 'एकाग्रता'।
 एकाग्रदृष्टि—(सं. वि.) एक ही विषय पर दृष्टि डालनेवाला।
 एकात्मता—(सं. स्त्री.) अभेद, एकता, एक ही आत्मा का भाव।
 एकात्मवादी—(सं. वि.) वेदान्त मत का अवलम्बन करनेवाला।
 एकात्मा—(सं. पुं.) अद्वितीय आत्मा; (वि.) एकरूप।
 एकादश—(सं. वि.) ग्यारह, ग्यारहवाँ।
 एकादशाह—(सं. पुं.) ग्यारह दिन में कर्तव्य श्राद्ध, मरने के दिन से ग्यारहवें दिन पर किया जानेवाला कृत्य।
 एकादशी—(सं. स्त्री.) प्रत्येक चान्द्र मास के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की ग्यारहवीं तिथि जो व्रत का दिन होता है।
 एकादेश—(सं. पुं.) एक आज्ञा, व्याकरण में दो शब्दों के स्थान में एक ही आदेश।
 एकाधिपति—(सं. पुं.) सम्राट्, बड़ा राजा।
 एकाधिपत्य—(सं. पुं.) एकमात्र अधिकार, प्रधान आधिपत्य।
 एकार—(सं. पुं.) स्वर वर्ण का ग्यारवाँ अक्षर 'ए'।
 एकार्य, एकार्यक—(सं. वि.) समानार्थक, एक ही अर्थ का।
 एकार्यता—(सं. स्त्री.) अर्थ की अभिन्नता।
 एकावली—(सं. स्त्री.) एक लर की माला, एक अलंकार जिसमें पूर्व पद के प्रति पर (वाद के) पद का विशेषण रूप से स्थापित होना या निषेध दिखलाया जाता है।
 एकाश्रम—(सं. पुं.) निर्जन स्थान।
 एकाह—(सं. वि.) एक दिन में समाप्त होनेवाला।
 एकाहार—(सं. पुं.) दिन में केवल एक बार भोजन।
 एकाहारी—(सं. वि.) दिन में एक बार भोजन करनेवाला।
 एकीकरण—(सं. पुं.) एकदृष्टा करने का काम, एकदृष्टा करना।
 एकीकृत—(सं. वि.) एकदृष्टा किया हुआ।
 एकीभूत—(सं. वि.) मिश्रित, मिला हुआ।
 एकीभूत—(सं. वि., पुं.) इन्द्रियों को मली-बुरी भावों से अलग रखते हुए मन की

ओर लीन करनेवाला, वह प्राणी (यथा, जोंक इ०) जिसको एक ही इन्द्रिय अर्थात् त्वचा होती है।
 एकीक्षण—(सं. वि.) एक आँख का, काना।
 एकैक—(सं. वि.) एकाकी, अकेला।
 एकीतरसी—(हि. वि., पुं.) एक सी एक, १०१।
 एकीदर—(सं. वि., पुं.) सहादर, एक ही पेट से उत्पन्न।
 एकीदृष्टि—(सं. पुं.) किसी एक मृत व्यक्ति के उद्देश्य से किया जानेवाला श्राद्ध।
 एकीज्ञा—(हि. वि.) अकेला।
 एकका—(हि. वि.) अकेला, एक से सम्बन्ध रखनेवाला; (पुं.) दुपहिया गाड़ी जिसको एक बैल या घोड़ा खींचता है, ताश का पत्ता जिसमें एक बूटी रहती है, झुंड को छोड़कर अकेला रहनेवाला पशु, अद्वितीय योद्धा।
 एककावान—(हि. पुं.) एकका हाँकनेवाला पुरुष।
 एककावानी—(हि. स्त्री) एकका हाँकने का काम।
 एककी (हि. स्त्री.) एक बैल से खींची जानेवाली गाड़ी, ताश का वह पत्ता जिसमें एक ही बूटी हो।
 एक्यावन—(हि. वि.) नव्वे और एक; (पुं.) नव्वे और एक की संख्या, ९१।
 एक्यावन—(हि. वि.) पचास और एक; (पुं.) पचास और एक की संख्या, ५१।
 एक्यासी—(हि. वि.) अस्सी और एक; (पुं.) अस्सी और एक की संख्या, ८१।
 एजेंट—(अं. पुं.) देखें 'अभिकर्ता'।
 एजेंसी—(अं. स्त्री.) अभिकर्ता के अधिकार, कर्तव्य आदि।
 एटनी (अं. पुं.) बड़ा वकील।
 एडवोकेट—(अं. पुं.) वरिष्ठ, वकील।
 एडी—(हि. स्त्री.) पाणि, पैर के पंजे के पीछे का उभड़ा हुआ भाग।
 एड़ा—(हि. वि.) आढ्य, बलवान्।
 एतद्—(सं. सर्व.) यह।
 एतदनंतर—(सं. अव्य.) इसके बाद।
 एतदर्थ—(सं. अव्य.) इस निमित्त।
 एतद्वधि—(सं. अव्य.) यहाँ तक।
 एतदेव—(सं. अव्य.) यही, दूसरा नहीं।
 एतद्देशीय—(सं. वि.) उस देश से सम्बन्ध रखनेवाला, इन देश का।
 एतना—(हि. वि.) देना 'इतना'।
 एतवार—(हि. पुं.) देना 'इतवार'।
 एतवारि—(हि. वि.) रत्नार को होने वाला।
 एता—(हि. वि.) इस परिमाण का, इतना।
 एतादृश—(सं. वि.) ऐसा, इसके समान।

एतावत्—(सं. वि.) इस परिमाण का।
 एतिक—(हि. वि.) इस परिमाण का, इतना।
 एमन—(हि. पुं.) एक राग विशेष; -कल्याण—(पुं) एमन और कल्याण के योग से बना हुआ राग।
 एरंड—(हि. पुं.) रेंड, रेंडी; -तेल—(पुं.) रेंडी के बीज का तेल।
 एल—(सं. स्त्री.) इलायची।
 एलुवा—(हि. पुं.) मूसव्वर।
 एवं—(सं. अव्य.) इसी प्रकार से, ऐसे ही।
 एव—(सं. अव्य.) इसी प्रकार से, ऐसे ही।
 एचमस्तु—(सं. पद) ऐना ही हो; (अव्य.) ऐसे ही और।
 एतियाई—(हि. वि.) एनिया महाद्वीप से सम्बन्ध रखनेवाला।
 एपणा—(सं. स्त्री.) इच्छा।
 एपिता—(सं. वि.) अमिलापायुक्त, चाहनेवाला।
 एहि—(हि. सर्व.) यह।
 एहो—(हि. अव्य.) संवोधन का शब्द अरे, है, ओ।

ऐ

ऐ संस्कृत और हिन्दी वर्णमाला का चारहवाँ अक्षर। इसका उच्चारण कण्ठ और तालु है; (अव्य.) आह्वान या पुकारने का शब्द; (पुं.) महेश्वर, महादेव।
 ऐ—(हि. अव्य.) भली भाँति न मुनी या समझी हुई बात के लिए प्रयुक्त होता है, एक आश्चर्यनुचक अव्यय।
 ऐचना—(हि. क्रि. स.) सीचना, तानना, ओढ़ना।
 ऐचाताना—(हि. वि.) फिरी हुई आँगनावाला, नंगा देखनेवाला।
 ऐचातानी—(हि. स्त्री.) गीना-ताँती नोच-सोढ, गिनाप, आग्रह।
 ऐचीला—(हि. वि.) रानीला।
 ऐडना—(हि. क्रि. ग.) मारना, शक्की में कंधी करना, मारना करना।
 ऐड—(हि. स्त्री.) गोट, मरीच, अभिमान, अहं, विरोध, डेव, पसंद, बुरा भाव, टपक।
 ऐडन—(हि. स्त्री.) पैर, पुनार, लपेट, गिनाप, गलाव।
 ऐडना—(हि. क्रि. स.) पतलना, ऐडना, मरोड़ना, बुरा भाव, बुरा भाव, पतलना, गिनाप, बुरा भाव, मरोड़, पसंद, अहं, लपेट, गिनाप, गलाव।

ऐंठवाना—(हि.क्रि.स.) ऐंठने का काम दूसरे से करवाना ।
 ऐंठा—(हि.पुं.) रस्सी. ऐंठने का एक यन्त्र, घोंघा ।
 ऐंठाना—(हि.क्रि.स.) देखें 'ऐंठवाना' ।
 ऐंठा-बैठा—(हि.वि.) अंडवंध, तिरछा, ऐंठ-बैठ ।
 ऐंठी—(हि.वि.स्त्री.) फिरी हुई, मुड़ी हुई ।
 ऐंठू—(हि.पुं.) अभिमानी पुरुष ।
 ऐंठू—(हि.स्त्री.) अभिमान, तनाव, अकड़, पानी का भँवर; (वि.) धूमा हुआ, निकम्मा, घमंडी ।
 ऐंठवार—(हि.वि.) अभिमानी, गर्वीला, घमंडी, कुटिल, बाँका, नोक-झोंकवाला, ठसकवाला ।
 ऐंठना—(हि.क्रि.अ.) धूम जाना, बल खाना, ऐंठना, अँगड़ाई आना, अभिमान करना, इतराना, घुमाना, देह टूटना ।
 ऐंठबंड—(हि.वि.) तिरछा-बाँका, बल साया हुआ ।
 ऐंठा—(हि.वि.) ऐंठा हुआ, घुमोवा; (पुं.) गड्ढा, सेंध ।
 ऐंठाना—(हि.क्रि.अ.) अँगड़ाई लेना, अकड़ दिखलाना, नाक-मौंह चढ़ाना, शरीर तोड़ना, इठलाना ।
 ऐंठा—(हि.पुं.) एक प्रकार का गड़ासा ।
 ऐंठजालिक—(सं.पुं.) जादूगर; (वि.) इन्द्रजाल संबंधी, मायावी ।
 ऐंद्रिय—(सं.वि.) इन्द्रिय सम्बन्धी, इन्द्रिय द्वारा ज्ञात ।
 ऐंठी—(सं.स्त्री.) इन्द्र की पत्नी, दुर्गा ।
 ऐकपत्य—(सं.पुं.) देख 'एकाधिपत्य' ।
 ऐकमत्य—(सं.पुं.) समान सम्पत्ति, एक-राय ।
 ऐकवाक्य—(सं.पुं.) एक-वाक्यता ।
 ऐकाहिक—(सं.वि.) एक दिन में होनेवाला ।
 ऐक्य—(सं.पुं.) एकता, सादृश्य, बराबरी ।
 ऐगुन—(हि.पुं.) देखें 'अवगुण' ।
 ऐच्छिक—(सं.वि.) इच्छा के अनुसार ।
 ऐतरेय—(सं.पुं.) ऋग्वेद की एक शाखा ।
 ऐतरेयी—(सं.पुं.) ऐतरेय ब्राह्मण पढ़नेवाला ।
 ऐतिहासिक—(सं.वि.) इतिहास सम्बन्धी, जो इतिहास से मालूम हो, इतिहास पढ़नेवाला ।
 ऐतिहा—(सं.पुं.) परंपरागत बात, जो बात बहुत दिनों से सुनने में आती है ।
 ऐन—(ध.वि.) उपयुक्त, पूरा, ठीक ।
 ऐनक—(अ.स्त्री.) उपनेत्र, आँसू में लगाने का चश्मा ।
 ऐना—(हि.पुं.) आईना, दर्पण ।
 ऐनक—(हि.पुं.) रस्ती के साथ बावल को

पीस कर बनाया हुआ लेप जो कलश आदि पर थापा या लगाया जाता है ।
 ऐव—(अ.पुं.) दोप, अवगुण, बुराई, कलंक, बुरा बन्ध्यास ।
 ऐवदार—(अ.वि.) ऐववाला, दोपयुक्त ।
 ऐवार—(हि.पुं.) भेंड़-बकरी वाँघने का बाड़ा या घेरा ।
 ऐवी—(फा.वि.) ऐवदार ।
 ऐवार—(फा.पुं.) धूर्त ।
 ऐयारी—(फा.स्त्री.) धूर्तता ।
 ऐयाश—(फा.पुं.) विलासी ।
 ऐयाशी—(फा.स्त्री.) विलासिता ।
 ऐरागैरा—(हि.वि.) अपरिचित, तुच्छ, छोटे पद का ।
 ऐरापति—(हि.पुं.) ऐरावत ।
 ऐरावत—(सं.पुं.) इन्द्र का हाथी, इन्द्रधनुष, विजली, पूर्व दिशा का हाथी, नारंगी, बड़हर ।
 ऐरावती—(सं.स्त्री.) ऐरावत की स्त्री, विजली, रावी नदी ।
 ऐल—(सं.पुं.) इलाका पुत्र पुहुरवा, मंगल ग्रह, खाद्य वस्तु; (हि.पुं.) प्रचुरता, वाढ़, आधिक्य ।
 ऐश—(सं.वि.) ईश या परमात्मा से संबंधित, ईश्वरीय; (अ.पुं.) विलास, विषय-भोग; -पसंद—(वि.) विलासी, आराम-तलब; -ब आराम—(पुं.) भोग-विलास ।
 ऐशान—(सं.वि.) शिव संबंधी ।
 ऐशानी—(सं.स्त्री.) ईशानकोण संबंधी, दुर्गा, देवी ।
 ऐशिक—(सं.वि.) ऐशान ।
 ऐश्वर—(सं.वि.) शक्तिशाली, शिव-सम्बन्धी, ईश्वरीय ।
 ऐश्वर्य—(सं.पुं.) ईश्वरता, प्रभुत्व, धन, संपत्ति, आधिपत्य, अणिमादि आठ सिद्धियाँ; -कर्मा—(वि.) बड़े-बड़े काम करनेवाला; -वान्—(वि.) सम्पन्न, वैभवयुक्त; -शाली—(वि.) ऐश्वर्य-वाला, धनवान ।
 ऐष्टिक—(सं.वि.) इष्टि यज्ञ से संबंधित ।
 ऐसा—(हि.अव्य.) इस प्रकार से, इस तरह से; (वि.) इस ढंग का, इस प्रकार का; -तैसा—(वि.) तुच्छ, निहृष्ट; (मुहा.) किसी की ऐसी-तैसी-गाली; ऐसै में जाय-चूल्हे या भाड़ में जाय, बरवाद हो जाय ।
 ऐसे—(हि.अव्य.) इस रीति या प्रकार से ।
 ऐहिक—(सं.वि.) इस लोक से सम्बन्ध रखनेवाला, संसारी ।

ओ

ओ—संस्कृत तथा हिन्दी वर्णमाला का तेरहवाँ अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ तथा ओष्ठ है; (सं.पुं.) ब्रह्मा; -(अव्य.) विस्मय तथा आश्चर्य-सूचक शब्द ।
 ओं—(सं.पुं.) ओंकार, परब्रह्म-वाचक शब्द, प्रणव, तथास्तु, बहुत अच्छा ।
 ओइँछना—(हि.क्रि.) वारना, न्योछावर करना ।
 ओंकना—(हि.क्रि.अ.) वमन या कै करना ।
 ओंकार—(सं.पुं.) देखें 'ओं' ।
 ओंगना—(हि.क्रि.स.) गाड़ी के पहिये के घूरे में तेल लगाना जिसमें पहिया सहज में घूम सके ।
 ओंग—(हि.पुं.) अपामार्ग, चिचिड़ा ।
 ओंठ—(हि.पुं.) ओष्ठ, होंठ; (मुहा.)-उखाड़ना—परती को पहले-पहल जोतना; -चवाना—क्रोध दिखलाना; -चाटना—लालच से होठों पर जीभ फेरना; -चूसना—अधर का चुंबन करना; -पपड़ना—ओठों के चमड़े का हखा होना; -फरकना—क्रोध से ओठों का कांपना; ओंठों पर—जवान पर, (बात का) मुँह से प्रकट होना; ओठों में कहना—बहुत धीमे स्वर में कहना ।
 ओंड़ा—(हि.वि.) गहरा; (पुं.) गड्ढा, सेंध ।
 ओंध—(हि.पुं.) छपर बाँघने की रस्सी ।
 ओआ—(हि.पुं.) हाथी फँसाने का गड्ढा ।
 ओक—(हि.स्त्री.) ओकाई, मचली; (सं.पुं.) आश्रय, रहने का ठिकाना, घर, पक्षी, शूद्र, अँगुली ।
 ओकना—(हि.क्रि.अ.) वमन करना, कथ करना, भँस की तरह चिल्लाना ।
 ओकपति—(सं.पुं.) सूर्य या चन्द्रमा ।
 ओकाई—(हि.स्त्री.) वमन की प्रवृत्ति ।
 ओकार—(सं.पुं.) 'ओ' अक्षर या उसकी वृत्ति ।
 ओकारांत—(सं.वि.) जिस शब्द के अन्त में 'ओ' रहे ।
 ओकी—(हि.स्त्री.) देखें 'ओकाई' ।
 ओखरी—(हि.स्त्री.) देखें 'ओखली' ।
 ओखल—(हि.पुं.) उलूखल, ओखली ।
 ओखली—(हि.स्त्री.) उदूखल; (मुहा.) -में सिर डालना या देना—कण्ट सहने के लिये तैयार होना ।
 ओखा—(हि.पुं.) वहाना, मिस; (वि.) सूझा, देहा, दूषित, खोटा, विरल, जो घना न हो, झीना ।
 ओग—(हि.पुं.) कर, चन्दा, लगान ।

ओगरना—(हि. क्रि. अ.) चूना, पसीजना, कुआँ आदि की सफाई के लिए उसमें जमा पक निकालना ।

ओगरना—(हि. क्रि. स.) कीचड़ आदि निकालकर कुएँ की सफाई करना ।

ओगल—(हि.पुं.) ऊसर भूमि, परती भूमि ।

ओघ—(सं. पुं.) समूह, ढेर, घनत्व, पानी का बहाव, बाढ़, परम्परा, पुरानी चाल, उपदेश ।

ओछना—(हि. क्रि. स.) उँछना ।

ओछा—(हि. वि.) गंभीरताहीन, छिछोरा, क्षुद्र, तुच्छ, छोटा, हलका, छिछला, शक्तिहीन, कम पड़नेवाला ।

ओछाई—(हि. स्त्री.) देखें 'ओछापन' ।

ओछापन—(हि. पुं.) छिछोरापन, क्षुद्रता, नीचता, हलकापन ।

ओज—(सं. पुं.) बल, प्रताप, तेज, वीर्य, क्रांति, चमक, सहारा, प्रकाश, शस्त्रादि में कुशलता, वैद्यक के अनुसार रसादि का सार-भाग, काव्य में पदाङ्गम्बर का गुण ।

ओजना—(हि. क्रि. स.) सहना, अँगेजना, मार लेना ।

ओजस्विता—(सं. स्त्री.) तेजस्विता, प्रकाश, चमक, प्रभाव, प्रताप ।

ओजस्वी—(सं. वि.) प्रतापी, प्रभावशाली, शक्तिमान् ।

ओझ—(हि. पुं.) उदर, पेट, आँत ।

ओझइत—(हि. पुं.) देखें 'ओझा' ।

ओझड़ी—(हि. स्त्री.) उदर, पेट, पेट की थैली ।

ओझरी—(हि. स्त्री.) देखें 'ओझड़ी' ।

ओझल—(हि. स्त्री.) छाया, परछाई, ओट, परदा, आड़; (वि.) गुप्त, छिपा हुआ ।

ओझला—(हि. पुं.) बच्चे का दूध पीकर उगलना ।

ओझा—(हि. पुं.) भूत-प्रेत उतारनेवाला पुरुष, मैथिल ब्राह्मणों की एक उपाधि, वाजीगर, चालाक ।

ओझाइन—(हि. स्त्री.) ओझा की स्त्री ।

ओझाई—(हि. स्त्री.) ओझा की वृत्ति, झाड़-फूंक ।

ओझती—(हि. स्त्री.) देखें 'ओझाई' ।

ओट—(हि. स्त्री.) अवरोध, रोक, आड़, छाया, परछाई, गुप्त स्थान, घुंघट, बचाव, महारा; —में-बहाने से, छिपकर ।

ओटन—(हि. स्त्री.) कपान के विनीले अलग बस्त्रों की चर्मी ।

ओटना—(हि. क्रि. स.) कपान के विनीले अलगाना, बीच-बीच में रोकना, अपनी ही दांत बगले रहना ।

ओटनी, ओटी—(हि. स्त्री.) कपान के विनीले निकालने की चर्मी ।

ओठगन—(हि. पुं.) आवार, सहारा ।

ओठगना—(हि. क्रि. अ.) किसी वस्तु के सहारे बैठना या लेटना, सहारा लेना, थोड़ी देर के लिए आराम करना ।

ओठगाना—(हि. क्रि. स.) सहारे से टिकाना, किवाड़ बन्द करना ।

ओठ—(हि. पुं.) ओष्ठ, होंठ ।

ओड़—(हि. स्त्री.) ओट, आड़ ।

ओड़चा—(हि. पुं.) खेत सींचने का काठ का टोकरी के आकार का पात्र ।

ओड़न—(हि. स्त्री.) अवरोध, रुकावट, बचाव का पदार्थ, ढाल ।

ओड़ना—(हि. क्रि. स.) अवरोध लगाना, रोकना, पसारना, फैलाना ।

ओड़ब—(सं. पुं.) एक राग विद्योप जिसमें केवल पाँच ही स्वर लगते हैं ।

ओड़ा—(हि. पुं.) टोकरी, छाँचा, गड्ढा, सेंध; (वि.) गहरा, न्यून ।

ओड़ा—(सं. पुं.) उड़ीसा देश; —देश—(पुं.) उत्कल देश ।

ओड़न—(हि. स्त्री.) वस्त्र से शरीर को ढाँपने का काम, ओड़ने का वस्त्र ।

ओड़ना—(हि. क्रि. स.) लपेटना, वस्त्र से शरीर को ढाँपना, रोकना, अपने ऊपर किसी कार्य का भार ले लेना; (पुं.) शरीर ढाँपने का वस्त्र, चादर; (मुहा.) —उतारना—अपमानित या लोछित करना; —विछोना बना लेना—

हर बस्त काम में लाना ।

ओड़नी—(हि. स्त्री.) त्रिचयों के ओड़ने का वस्त्र, छोटी चादर ।

ओड़र—(हि. पुं.) छल, धोखा, बहाना ।

ओड़वाना—(हि. क्रि. स.) ढँपवाना, ओड़ाने का काम किसी दूसरे से करवाना ।

ओड़ाना—(हि. क्रि. स.) दूसरे के शरीर को वस्त्र से ढाँपना ।

ओड़ौनी—(हि. स्त्री.) ओड़नी ।

ओत—(सं. वि.) मरा हुआ, बुना हुआ; (हि. स्त्री.) कपड़े के ताने का नूत, सुख, विश्राम, आराम, आलस्य, मुस्ती, लाम, बचत ।

ओतप्रोत—(सं. वि.) संघटित, एक दूसरे से मिला हुआ; (पुं.) तानाबाना ।

ओता—(हि. वि.) उस परिमाण का, उतना ।

ओती—(हि. वि., स्त्री.) उतनी ।

ओता—(हि. वि.) उतना ।

ओद—(हि. पुं.) तरी, गीलापन; (वि.) गीला, तर ।

ओदन—(सं. पुं.) पका हुआ चावल, नान ।

ओदनीय—(सं. वि.) ताने योग्य ।

ओदर—(हि. पुं.) देखें 'उदर' ।

ओदरना—(हि. क्रि. अ.) छिन्न-गिन्न होना, फटना ।

ओदा—(हि. वि.) तर, गीला ।

ओदारना—(हि. क्रि. स.) तोड़ना, फोड़ना, छिन्न-गिन्न करना, फाड़ डालना, नष्ट करना ।

ओघना—(हि. क्रि. अ.) बंधन में पड़ना, अटकना ।

ओनंत—(हि. वि.) अवनत, झुका हुआ ।

ओनचन—(हि. स्त्री.) लट्टिये के पायतान में कसने की रस्सी, अदवायन ।

ओनचना—(हि. क्रि. स.) अदवायन कसना ।

ओनवना—(हि. क्रि. स.) देखें 'उनवना' ।

ओना—(हि. पुं.) गड्ढे, तालाब आदि का पानी निकलने का मार्ग ।

ओनाड़—(हि. वि.) शक्तिमान्, पुष्ट ।

ओनाना—(हि. क्रि. स.) मुनना, कान लगाना ।

ओनामासी—(हि. स्त्री.) ओं नमः निद्रम्, (विद्यारम्भ के समय का मांगलिक वाक्य) बारंन ।

ओप—(हि. स्त्री.) चमक, शोभा, रंग, कलर्ड ।

ओपची—(हि. पुं.) कवचधारी योद्धा ।

ओपना—(हि. क्रि. स.) चमकाना ।

ओपनिदारी—(हि. वि. स्त्री.) चमकनेवाली ।

ओपनी—(हि. स्त्री.) तलवार आदि को चमकाने का साधन ।

ओपरी—(हि. स्त्री.) छोटी फाँठरी ।

ओर—(हि. स्त्री.) दिगा, पक्ष, अलग; (पुं.) छोर, किनारा, अन्त, आरम्भ; (मुहा.) —निबहना या गिनाना—अंत तक अपनी जिम्मेदारी या कर्तव्य पूरा करना ।

ओरती—(हि. स्त्री.) देखें 'ओलती' ।

ओरमना—(हि. क्रि. अ.) महारा केना, लटकना ।

ओरना—(हि. पुं.) काटे के गिनारों पर की एक प्रकार की मिलाई ।

ओरमाना—(हि. क्रि. अ.) उतमाना, लटकाना ।

ओरपना—(हि. क्रि. अ.) गन्ध-सौंभ के फल में दूध उतरना ।

ओरहना—(हि. पुं.) देखें 'ओरहना' ।

ओरान-उद्योग—(पुं.) उद्योग, मुनाडा, जादि दोनों में पाया अनेकता एक प्रकार का प्रभाव ।

ओरना—(हि. क्रि. अ.) चर जाना, चर लेना ।

ओरहना—(हि. पुं.) देखें 'ओरहना' ।

ओरिया—(हि. स्त्री.) पृष्ठ के भाग की लकड़ी, ओरी ।

ओरी—(हि. स्त्री.) ओलती; (अव्य.) नदीवन का शब्द जो स्त्रियों के लिये प्रयुक्त होता है।
 ओरीता—(हि. वि.) अन्त का, चुकाता।
 ओरीती—(हि. स्त्री.) ओलती, छप्पर से बरसाती पानी गिरने का स्थान।
 ओलंदा, ओलंगा—(हि. पुं.) ओलहना।
 ओल—(सं. पुं.) सूरज; (हि. स्त्री.) गोद, आड़, रक्षा, वहाना, शरण।
 ओलचा—(हि. पुं.) लकड़ी का उपकरण जो सिचाई में खेत छिड़कने के काम आता है।
 ओलती—(हि. स्त्री.) छप्पर से बरसाती पानी गिरने का स्थान, ओरी; (मुहा.)—तले का भूत-पड़ोस का आदमी जो घर का नदी हो।
 ओलना—(हि. क्रि. स.) छिपाना, आड़ करना, परदा करना, सहन करना, रोकना, ऊपर लेना, भोंकना।
 ओलमना—(हि. क्रि. अ.) लटकना, झुकना, सहारा लेना।
 ओलरना—(हि. क्रि. अ., स.) लेट जाना, ओलारना, लेटा देना।
 ओलराना—(हि. क्रि. स.) लेटा देना।
 ओल(ला)हना—(हि. पुं.) देखें 'उलाहना'।
 ओला—(हि. पुं.) वर्षा के साथ गिरा हुआ हिम का टुकड़ा, त्रिनीली, मिश्री का बना हुआ लड्डू, परदा, आड़, छिपी हुई बात; (वि.) बहुत ठंडा, सफेद।
 ओलाना—(हि. क्रि. स.) भूना, सेंकना।
 ओलारना—(हि. क्रि. स.) लेटा देना।
 ओलियाना—(हि. क्रि. स.) घुसाना।
 ओली—(हि. स्त्री.) क्रोड़, गोदी, अंचल, पल्ला, झोली।
 ओलीना—(हि. पुं.) उदाहरण, दृष्टान्त।
 ओल्या—(हि. पुं.) वहाना।
 ओपव—(हि. स्त्री.) देखें 'श्रीपव'।
 ओपधि—(सं. स्त्री.) औपधि, वनस्पति, जड़ी-बूटी।
 ओपधिपति—(सं. पुं.) चन्द्रमा, वँच, कपूर।
 ओपधी—(सं. स्त्री.) देखें 'औपधि'।
 ओपधीना—(सं. पुं.) चन्द्रमा, कपूर।
 ओप्ट—(सं. पुं.) दन्तच्छद, होंठ।
 ओप्टगमना—(सं. वि.) मगणासन्न, मृत-नाय।
 ओप्ट्य—(सं. वि.) ओप्ट संबंधी, होंठ से उच्चारण किया जानेवाला;—वर्ण—(पुं.) उ, व, फ, ब, न तथा म अक्षर।
 ओप्य—(सं. वि.) चोड़ा गरम।
 ओस—(हि. स्त्री.) रात्रि में आकाश से

भूमि पर गिरनेवाला वाष्पीय जल, (गहरी ओस पाला कहलाती है); (मुहा.)—का मोती-अणभंगुर वस्तु;—चाटने से प्यास नहीं बुझती—थोड़ी सी चीज के मिलने या खाने से परितृप्ति नहीं होती।
 ओसनना—(हि. क्रि. स.) आटा सानना, गुंवना।
 ओसर—(हि. स्त्री.) गर्भ धारण करने योग्य गाय या भैंस।
 ओसरी—(हि. स्त्री.) अवसर, समय, पारी।
 ओसाई—(हि. स्त्री.) ओसाने का काम, गल्ला उड़ाने या ओसाने की भृति।
 ओसाना—(हि. क्रि. स.) दायें हुए गल्ले को हवा में उड़ाकर भूसा और अन्न अलग करना, हवा में फेंकना।
 ओसार—(हि. पुं.) विस्तार, चौड़ाई, फैलाव, ओसारा।
 ओसारा—(हि. पुं.) दालान, छप्पर।
 ओसीला—(हि. पुं.) देखें 'वसीला'।
 ओसीसा—(हि. पुं.) विछावन का ऊपरी भाग, सिरहाना, उपधान, तकिया।
 ओसूल—(हि. पुं.) देखें 'वसूल'।
 ओसेका—(हि. पुं.) देखें 'वसीका'।
 ओह—(हि. अव्य.) दुःख अथवा आश्चर्य-सूचक अव्यय, अरे! हाय!
 ओहदा—(अ. पुं.) पद, मर्यादा।
 ओहदेदार—(अ. पुं.) पदारूढ़ अविकारी।
 ओहरना—(हि. क्रि. अ.) ऊपर से नीचे की ओर आना, घट जाना।
 ओहरी—(हि. स्त्री.) म्लानता, थकावट।
 ओह्रवा—(हि. पुं.) झालर, परदा, ओहार।
 ओहार—(हि. पुं.) गाड़ी, पालकी इत्यादि के ऊपर ढांपने का वस्त्र, परदा।
 ओहो—(हि. अव्य.) विस्मय तथा आनन्द प्रकट करने के लिये इस शब्द का प्रयोग होता है, अरे! अहो! अहो!

औ

औ—संस्कृत स्वर वर्ण का चौदहवाँ अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान ओष्ठ और कण्ठ है; (पुं.) शेषनाग, अनन्त, पृथ्वी; (हि. अव्य.) और।
 औगना—(हि. क्रि. स.) पहिये के धुरे में तेल देना, औगना।
 औंगा—(हि. वि.) मोन, गुंगा, चुपचाप।
 औंगी—(हि. स्त्री.) गुंगापन, चुपकी।
 औघ—(हि. स्त्री.) औघाई, झपकी, हलकी नाँद।

औघना—(हि. क्रि. अ.) झपकी लेना, ऊँघना।
 औघाना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'ऊँघना'।
 औघाई—(हि. स्त्री.) ऊँघ, झपकी।
 औजना—(हि. क्रि. अ.) घबड़ाना, अकुलाना, उकताना।
 औटन—(हि. पुं.) चारा काटने का ठीहा, चुरकर गाढ़ा होना।
 औटना—(हि. क्रि. स.) उवलना, खीलना, जलना।
 औटाना—(हि. क्रि. स.) उवालना, पकाना, खीलाना।
 औठ—(हि. स्त्री.) उठा हुआ या उभड़ा हुआ किनारा; (मुहा.)—उठाना—परती खेत को जोतना।
 औंड—(हि. पुं.) बेलदार, मिट्टी खोदने-वाला श्रमिक।
 औंडा—(हि. वि.) गहरा, खोदा हुआ, उभड़ा हुआ।
 औंदना—(हि. क्रि. अ.) उन्मत्त होना, घबड़ाना, बेसुध होना, खाना, उड़ाना।
 औंदाना—(हि. क्रि. अ.) घबड़ाना, उगताना।
 औंधना—(हि. क्रि. अ., स.) उलट जाना, मुँह के बल गिर पड़ना, उलटा कर देना।
 औंधा—(हि. वि.) उलटा, मुँह के बल पड़ा हुआ, टेढ़ा; (अव्य.) उलटकर; (पुं.) मूर्ख; (मुहा.)—हो जाना—बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ना; औंधी खोपड़ी या समझ-निपट या जड़ मूर्ख; औंधे मुँह गिरना—बड़ा धोखा खाना।
 औंधाना—(हि. क्रि. स.) उलटाना, पात्र का मुँह-नीचे को करना, उँडेलना।
 औंस—(अं. पुं.) दो या मूदा दो तोले के बराबर अंग्रेजी तोल।
 औंकात—(अ. पुं.) वक्त का बहुवचन, समय, जमाना।
 औंकान—(हि. पुं.) कटे हुए अन्न का ढेर।
 औंकास—(हि. पुं.) देखें 'अवकाश'।
 औंकाद—(हि. पुं.) देखें 'औपव'।
 औंसा—(हि. पुं.) गाय-बैल का चमड़ा।
 औंसी—(हि. स्त्री.) गुंवारु मापा, टेढ़ीवात।
 औंसड़—(हि. वि.) वेङ्गी रीति से बनाया हुआ।
 औंगत—(हि. स्त्री.) दुर्गति, दुर्दशा; (वि.) अवगत, जाना-बूझा हुआ।
 औंगल—(हि. स्त्री.) भूमि के नीचे की तरी।
 औंगाह—(हि. वि.) गहरा।
 औंगाहना—(हि. क्रि. अ.) प्रवेश करना, घुसना, नहाना।
 औंगी—(हि. स्त्री.) हाथी फँसाने का गड़वा, बँलगाड़ी हाँकने की छड़ी, पैना,

वटी हुई रस्सी का बना हुआ कोड़ा ।
 औगुन- (हि. पुं.) देखें 'अवगुण' ।
 औगुनी- (हि. वि.) गुणरहित ।
 औघ- (सं. पुं.) जल-समूह, वाढ़ ।
 औघट- (हि. वि.) दुस्तर, कठिन, ढालुवां ।
 औघड़- (हि. वि.) फूहड़, अनाड़ी, उलटा-मुलटा; (पुं.) अघोरी, अघोरपंथी ।
 औघर- (हि. वि.) विपरीत, अनगढ़, अटपटा ।
 औचक- (हि. अव्य.) अचानक, धोखे से ।
 औचट- (हि. अव्य.) अचानक, धोखे से, तुरन्त, झटपट, मूल से; (सं. स्त्री.) कठिनाता, संकट, संकुचित स्थान, फँसाव ।
 औचित- (हि. वि.) चिन्तारहित ।
 औचित्य- (सं. पुं.) उपयुक्तता, सत्य, सचाई ।
 औजड़- (हि. वि.) फूहड़, असम्य, गँवार ।
 औजार- (अ. पुं.) उपकरण, हथियार ।
 औसक- (हि. अव्य.) एकाएक, झट से ।
 औसड़- (हि. स्त्री.) प्रहार, धक्का; (अव्य.) झटके के साथ, उछलकर, निरन्तर ।
 औसने- (हि. स्त्री.) औटने की क्रिया, उवाल, ताव ।
 औसना- (हि. क्रि. अ., स.) उवालना, गरम करके गाढ़ा करना, भ्रमण करना, घूमना-फिरना, श्लोक से लाल होना ।
 औसनी- (हि. स्त्री.) हलवाई का चाशनी घोटने का डंडा ।
 औटा- (हि. वि.) औटाय़ा या खौलाया हुआ, उवाला हुआ ।
 औटाई- (हि. स्त्री.) औटाने का काम ।
 औटाना- (हि. क्रि. स.) पकाकर गाढ़ा करना ।
 औटी- (हि. स्त्री.) औटाकर या उवालकर गाढ़ी की हुई औपवि ।
 औड़- (सं. पुं.) उड़ीसा का निवासी ।
 औढव- (हि. वि.) वेढंगा, उटपटांग ।
 औढर- (हि. वि.) इधर-उधर घूमनेवाला, मनमौजी ।
 औत्स- (हि. पुं.) देखें 'अवत्स' ।
 औतरना- (हि. क्रि. अ.) अवतार लेना ।
 औतार- (हि. पुं.) देखें 'अवतार' ।
 औत्तर- (सं. वि.) उत्तरी ।
 औत्तानपाद, -पादि- (सं. पुं.) ध्रुव, ध्रुवतारा ।
 औत्तापिक- (सं. वि.) उताप संबंधी ।
 औत्पत्तिक- (सं. वि.) उत्पत्ति से संबंधित ।
 औत्पातिक- (सं. वि.) उत्पात संबंधी ।
 औत्स- (सं. वि.) उत्स या डरने से उत्पन्न ।
 औत्सर्गिक- (सं. वि.) उत्सर्ग संबंधी ।
 औत्सुख्य- (सं. पुं.) उत्सुका, उत्सुकता, निम्ता, क्षणिक में अप्राप्ति से उत्पन्न विनियोग भाव ।
 औसरा- (हि. वि.) देखें 'उपला' ।

औदक- (सं. वि.) उदक संबंधी ।
 औदकना- (हि. क्रि. अ.) चीक पड़ना ।
 औदनिक- (सं. पुं.) रोटी बनानेवाला, रसोईदार ।
 औदयिक- (सं. वि.) उदय संबंधी ।
 औदर- (सं. वि.) उदर संबंधी ।
 औदरिक- (सं. वि.) उदर संबंधी, मूला, बहुभोजी, पेट ।
 औदर्य- (सं. वि.) उदर संबंधी ।
 औदस- (हि. पुं.) अपयश, दुर्नाम ।
 औदसा- (हि. स्त्री.) अवदशा, दुर्भाग्य ।
 औदात- (हि. वि.) देखें 'अवदात' ।
 औदान- (हि. पुं.) देखें 'अवदान' ।
 औदार्य- (सं. पुं.) उदारता, वाक्य के अर्थ का गौरव, वेदान्त के अनुसार मनोवृत्ति ।
 औदास्य, औदासीन्य- (सं. पुं.) उदासीनता ।
 औदीच्य- (सं. वि.) उदीचि या उत्तर संबंधी, उत्तरी ।
 औदुधर- (सं. वि.) गूलर का बना हुआ, ताँवे का बना हुआ; (पुं.) गूलर की लकड़ी का बना हुआ यज्ञपात्र, ओखरी, ताँवा ।
 औद्धत्य- (सं. पुं.) अविनीत भाव, घृष्टता, अक्लड़पन ।
 औद्भिद- (सं. वि.) पृथ्वी को फोड़कर निकलनेवाला ।
 औद्योगिक- (सं. वि.) उद्योग से संबंध रखनेवाला ।
 औघ- (हि. पुं.) देखें 'अवघ'; (स्त्री.) काल, अवधि ।
 औघारना- (हि. क्रि. स.) देखें 'अवघारना'; प्रारंभ करना ।
 औघि- (हि. स्त्री.) देखें 'अवघि' ।
 औघिया- (हि. पुं.) तस्कर, चोर, ठग, अवघ का रहनेवाला ।
 औन्त- (हि. वि.) देखें 'अवन्त' ।
 औनापीना- (हि. वि.) प्रायः तीन अंश का, आघा-तीहा, थोड़ा-बहुत; (अव्य.) कुछ कम दाम पर, कमती-बढ़ती पर ।
 औनि- (हि. स्त्री.) देखें 'अवनि' ।
 औनिय- (हि. पुं.) राजा ।
 औपकार्य- (सं. पुं.) मकान, डेरा, रावटी ।
 औपचारिक- (सं. वि.) उपचार सम्बन्धी, अलंकारयुक्त, दिखावटी ।
 औपटी- (हि. वि. स्त्री.) विकट, अटपटी ।
 औपदेशिक- (सं. वि.) उपदेश से मिला हुआ, उपदेश-संबंधी ।
 औपद्रविक- (सं. वि.) उपद्रव सम्बन्धी ।
 औपनिधित- (सं. वि.) उपनिधि या चरोहर संबंधी ।

औपनिवेशिक- (सं. वि.) उपनिवेश संबंधी; -स्वराज्य- (पुं.) ब्रिटिश राष्ट्र-कुल में कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि को प्राप्त स्वराज्य ।
 औपनिपद- (सं. वि.) उपनिपद संबंधी ।
 औपन्यासिक- (सं. वि.) उपन्यास सम्बन्धी; विलक्षण, अनोखा ।
 औपनिपदिक- (सं. वि.) देखें 'औपनिपद' ।
 औपपत्तिक- (सं. वि.) उपपत्ति संबंधी, स्वार्थसाधक; (पुं.) लिंग, शरीर ।
 औपमिक- (सं. वि.) उपमा द्वारा कहा हुआ ।
 औपम्य- (सं. पुं.) सादृश्य, बराबरी ।
 औपयोगिक- (सं. वि.) उपयोग संबंधी ।
 औपराजिक- (सं. वि.) उपराज संबंधी ।
 औपवासिक- (सं. वि.) उपवास संबंधी, उपवास का ।
 औपशमिक- (सं. वि.) ठंडा करनेवाला ।
 औपश्लेषिक- (सं. वि.) उपश्लेष संबंधी, मेली; -आधार- (पुं.) अधिकरण कारक में वह आधार जिसका लगाव किसी अंश से ही हो ।
 औपसर्गिक- (सं. वि.) उपसर्ग संबंधी ।
 औपस्थिका- (सं. स्त्री.) बेध्या, रंडी ।
 औपहारिक- (सं. वि.) उपहार के उपयोग का ।
 औपाधिक- (सं. वि.) उपाधि सम्बन्धी ।
 औपेंद्र- (सं. वि.) उपेंद्र-संबंधी ।
 औम- (हि. स्त्री.) अवम तिगि ।
 और- (हि. वि.) अन्य, दूसरा, केवल, अधिक; (सर्व.) अन्य पुरुष; (अव्य.) तथा; (मुहा.) -का और-सर्वथा निव; -न्या-एसा ही है; -तो और-दुमरों की बात ही क्या; -ही कुछ- किन्तु या जुवा, निराला ।
 औरग- (सं. वि.) उरग या नांप का ।
 औरत- (अ. स्त्री.) स्त्री, पत्नी ।
 औरना- (हि. क्रि. अ.) अग्रसर होना ।
 औरस- (सं. वि.) मगान जालि को विना-हिता स्त्री से उत्पन्न (पुन) ।
 औरव- (हि. पुं.) तिरछापन, कपड़ की विरट्टी काट; -दार- (वि.) विरट्टी काटवाला ।
 और्वीय- (सं. वि.) उर्वशी संबंधी; (पुं.) उर्वशी से उत्पन्न ।
 औलना- (हि. वि. अ.) गरमी पड़ना, गरम या उमर होना ।
 औलार- (अ. स्त्री.) संतान, बेटा-पेट्टी ।
 औला-औला- (हि. वि.) आगमन, मोड़ी ।
 औलिया- (अ. पुं.) निरा मरणा, निरा नृणात्मन पारि (यही का का) ।
 औल्य- (अ. वि.) उल्ल, प्रयत्न, प्रयास ।

औवलन—(अ. अव्य.) सबसे पहले ।
 औषध—(स. स्त्री.) दवा, औषधि, जड़ी-बूटी ।
 औषधालय—(सं. पुं.) दवाखाना, अस्पताल ।
 औषधि, औषधी—(सं. स्त्री.) देखें 'औषधि' ।
 औष्ट—(सं. वि.) उष्ट्र संबंधी ।
 औष्टक—(सं. वि.) औष्ट्र ।
 औष्ठ्य—(सं. वि.) औष्ठ संबंधी ।
 औसत—(अ. वि., अव्य.) साधारण, प्रशम; (पुं.)
 राशियों के जोड़ को राशियों की संख्या
 से भाग देने पर प्राप्त संख्या, परता;
 —दर्ज का—प्रसम, न अच्छा न खराब ।
 औसना—(हि. क्रि. अ.) ऊमस होना ।
 औसाना—(हि. क्रि. स.) औसने को प्रवृत्त
 करना, फल आदि भूसे में पकाना ।

क

क—हिन्दी वर्णमाला का प्रथम व्यंजन
 वर्ण, इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ
 है; (सं. पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, काम-
 देव, किरण, रत्न, मन, शरीर, काल,
 धन, प्रकाश, शब्द, अग्नि, वायु, प्रजा-
 पति, मोर, जल, सुख, केश, मस्तक ।
 कंकड़—(हि. पुं.) मिट्टी और चूने के
 योग से बने हुए रोड़े जिनको फूँककर
 चूना बनता है, ये सड़कों पर भी पीटकर
 जमाये जाते हैं, किसी वस्तु का पीसने
 योग्य छोटा टुकड़ा, पीने की सूखी
 तन्वाकू, रत्न ।
 कंकड़ी—(हि. स्त्री.) छोटा कंकड़, छोटा
 टुकड़ा ।
 कंकड़ीला—(हि. वि.) कंकड़ मिला हुआ ।
 कंकण—(सं. पुं.) कंगन, वर-कन्या के
 हाथ में बांधा जानेवाला धागा ।
 कंकण—(हि. पुं.) देखें 'कंकण' ।
 कंकर—(हि. पुं.) देखें 'कंकड़' ।
 कंकरोट—(अं. स्त्री.) कंकड़, सीमेंट,
 बालू आदि के मेल से बना हुआ गृह-
 निर्माण का मसाला ।
 कंकरौला—(हि. वि.) देखें 'कंकड़ीला' ।
 कंकरोट—(हि. स्त्री.) देखें 'कंकरोट' ।
 कंकाल—(सं. पुं.) हड्डियों का ढाँचा,
 टठरी; —शेष—(वि.) जिसका शरीर
 टठरी भर रह गया हो ।
 कंकाली—(हि. पुं.) नीस माँग कर जीने-
 वाली एक जाति ।
 कंकाल—(सं. पुं.) एक प्रकारकी घीतलचीनी ।
 कंठघारी, कंठीरी—(हि. स्त्री.) काँच,
 माँग में होनेवाला फोड़ा ।
 कंगन—(हि. पुं.) कंकण, सिखों का

हाथ में डालने का लोहे का छल्ला ।
 कंगना—(हि. पुं.) देखें 'कंगन' ।
 कंगनी—(हि. स्त्री.) छोटा कंगन, लाख
 की बनी मोटी चूड़ी, छत के नीचे का
 उमड़ा हुआ भाग, खंभे का छल्ले के
 आकार का उमड़ा हुआ भाग, एक प्रकार
 का चावल के समान अन्न, ककुनी ।
 कंगला—(हि. वि.) देखें 'कंगल';
 —पन—(पुं.) दैन्य भाव, निर्धनता ।
 कंगसी—(हि. स्त्री.) गाँठ, कन्दा, मल-
 खंभ का एक व्यायाम ।
 कंगही—(हि. स्त्री.) देखें 'कंधी' ।
 कंगारू—(अं. पुं.) आस्ट्रेलिया देश में
 पाया जानेवाला एक जंगली जंतु ।
 कंगाल—(हि. वि.) निर्धन, दरिद्र, भुक्खड़;
 —गुंडा घर बंकरा—निर्धन शहीकीन ।
 कंगाली—(हि. स्त्री.) दरिद्रता, निर्धनता ।
 कंगुरिया—(हि. स्त्री.) सबसे छोटी अँगुली ।
 कंगुरा—(हि. पुं.) प्रासाद की चोटी, गुंबद,
 शिखर, मुकुटमणि, आभूषण का कंगूरे के
 आकार का दाना ।
 कंगूरेदार—(हि. वि.) शिखायुक्त, चोटीदार ।
 कंधा—(हि. पुं.) बाल झारने की बड़ी
 कंधी, जुलाहों का एक यंत्र जिससे वे
 करगह में भरती के तागों को कसते हैं ।
 कंधी—(हि. स्त्री.) छोटा कंधा, जुलाहे
 का एक यंत्र, अतिबला नामक वृक्ष ।
 कंधेरा—(हि. पुं.) कंधा बनानेवाला कारीगर ।
 कंच—(हि. पुं.) काँच ।
 कंचन—(हि. पुं.) सुवर्ण, सोना ।
 कंचनी—(हि. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
 कंचुक—(हि. पुं.) कवच, चोली ।
 कंचुकी—(हि. स्त्री.) चोली, कंचुली ।
 कंचुली—(हि. स्त्री.) कंचुली ।
 कंचेरा—(हि. पुं.) काँच का काम करने-
 वाला कारीगर ।
 कंचेली—(हि. पुं.) वृक्ष की कोमल शाखा ।
 कंज—(हि. पुं.) ब्रह्मा, कमल, केश ।
 कंजई—(हि. वि.) धुँएँ के रंग का;
 (पुं.) वह धोड़ा जिसकी आँखें कंजई
 रंग की होती हैं ।
 कंजड़, कंजड़ा—(हि. पुं.) एक घूमने-
 वाली जाति, इस जाति के लोग रस्सा
 इत्यादि बनाकर बेचते हैं, (इनकी स्त्री
 को कंजड़िन कहते हैं); मैला या डरपोक
 मनुष्य, मडुवा ।
 कंजन—(सं. पुं.) ब्रह्मा, कामदेव ।
 कंजा—(हि. वि.) कंजई; (पुं.) कंजी
 आंसवाला मनुष्य, एक कंठीली झाड़ी ।
 कंजियाना—(हि. क्रि. अ.) धीमा पड़ना,

मन्द होना ।
 कंजूस—(हि. वि.) कृपण, कम व्यय
 करनेवाला, सूम ।
 कंजूसी—(हि. स्त्री.) कृपणता, सूमपन ।
 कंटक—(सं. पुं.) काँटा, सूई की नोक,
 खटकने या परेशान करनेवाली बात,
 रोमांच, घड़ियाल ।
 कंटकाकीर्ण—(सं. वि.) कांटों से भरा ।
 कंटकारिका, कंटकारी—(सं. स्त्री.) भट-
 कटैया ।
 कंटकित—(सं. वि.) कंठीला ।
 कंटकी—(सं. स्त्री.) भटकटैया; (सं. वि.)
 कांटोंवाला, कष्टदायक ।
 कंटवास—(हि. पुं.) एक तरह का कांटों-
 वाला वाँस ।
 कंटाइन—(हि. स्त्री.) चुड़ैल, डाइन, दुष्टा
 स्त्री; (अव्य.) पूर्ण रूप से, मली भाँति ।
 कंटिया—(हि. स्त्री.) काँटी, छोटी कील,
 मछली फँसने की लोहे की पतली
 टेढ़ी अँकुसी, लोहे की अँकुसियों का
 गुच्छा जिससे कुएँ में गिरे हुए गगरे,
 लोटे इत्यादि निकाले जाते हैं, सिर पर
 पहिने का एक आभूषण ।
 कंठीला—(हि. वि.) (स्त्री. कंठीली)
 काँटेदार, जिसमें काँटे हों ।
 कंठीप—(हि. पुं.) सिर तथा कानों को
 ढाँपने की एक प्रकार की टोपी ।
 कंठ—(सं. पुं.) गला, स्वर, आवाज, घड़े
 आदि का गला; (हि. वि.) याद,
 कंठस्थ; —गत—(वि.) गले में आया हुआ;
 —त्राण—(पुं.) गले में पहना जानेवाला,
 कवच; —माला—(स्त्री.) गले का एक
 रोग जिसमें दुःसाध्य फोड़े निकलते
 रहते हैं; —ला—(हि. पुं.) वच्चों के गले
 में पहिने का एक आभूषण; —सिरी—
 (हि. स्त्री.) गले का आभूषण; —स्थ—
 (वि.) कंठ में स्थित, कंठगत, याद;
 —हार—(पुं.) गले का हार; (मुहा.)
 —खुलना या फूटना—आवाज निकलना;
 —बठना—गला बठना ।
 कंठा—(हि. पुं.) गले का चिह्न जो तोते के
 कण्ठ के चारों ओर पड़ जाता है, गले
 का एक आभूषण, फूलों का हार, हंसुली,
 कुरते का गले पर का चन्द्राकार कटाव ।
 कंठी—(हि. स्त्री.) छोटे दाने का कंठा,
 तुलसी आदि की माला; (मुहा.)
 —देना—गुरुमुख बनाना, चेला मुड़ना;
 —लेना—वैष्णव धर्मावलम्बी बनना ।
 कंठीघारी, कंठीबंद—(हि. वि.) कंठी
 पहननेवाला (वैष्णव) ।

कंठ्य-(सं.वि.) कठ संबन्धी; -वर्ण-(पुं.) वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ से होता हो (अ, आ, क, ख, ग) आदि।
 कंडरा-(हि. पुं.) मूली, सरसों आदि का मोटा डठल जो तरकारी बनाकर खाया जाता है।
 कंडा-(हि. पुं.) गोबर का पाथा हुआ लंबा टुकड़ा; (मुहा.)-होना-सूख जाना, मर जाना।
 कंडाल-(हि.पुं.) सिंघा, तुरुही, पानी रखने का बड़ा पात्र जिसका मुंह खुला होता है।
 कंडो-(हि. स्त्री.) छोटा कंडा, गोहरी, गोईठा, टोकरी, एक प्रकार की टोकरी जिसमें पहाड़ी लोग बोझ ले जाते हैं, गोलाकार सूखा मल, गोटा।
 कंडील-(हि. स्त्री.) कंदील, लालटेन, यह कागज या अवरख की बनी होती है।
 कंडीलिया-(हि. स्त्री.) प्रकाश-गृह या ऊंचा घरहरा।
 कंडु, कंड-(सं. पुं.) खाज, दाद।
 कंडेरा-(हि. पुं.) घुनियाँ।
 कंत-(हि. पुं.) कान्त, प्रभु, मालिक, पति।
 कंय-(हि. पुं.) देखें 'कंत'।
 कंद-(हि. पुं.) गूदेदार जड़, सूरन, गांठ, शोथ; -मूल-(पुं.) कन्ना, मूली।
 कंदर (सं. पुं.), कंदरा, कंदरी-(सं.स्त्री.) गुफा, धाटी।
 कंदर्प-(सं. पुं.) कामदेव, प्रणय, एक ताल (संगीत में); -ज्वर-(पुं.) एक प्रकार का ज्वर; -वहन, -मयन-(पुं.) शिव।
 कंदला-(हि. पुं.) तार खींचने के काम आनेवाली चाँदी की गुल्ली; -कश-(पुं.) तारकशी का काम करनेवाला।
 कंदा-(हि. पुं.) शकरकन्द, घुइयाँ, अरई।
 कंदालु-(हि. पुं.) वनकंद।
 कंदील-(अ. स्त्री.) मिट्टी या अवरक का लंप; -ची-(पुं.) मसजिद में चिराग जलानेवाला।
 कंडुक-(सं. पुं.) गेंद, सुपारी, एक वर्ण-वृत्त; -प्रौढ़ा-(स्त्री.) गेंद का खेल।
 कंदूल, कंदेला-(हि. वि.) मिलाकुचैला।
 कंध-(हि. पुं.) स्कन्ध, कन्धा, डाल।
 कंधनी-(हि. स्त्री.) करघनी, कमर में पहिने का आनूपण।
 कंधर (हि. पुं.) स्वप, मोथा।
 कंधा-(हि. पुं.) गरदन और बाहुमूल के के बीच का भाग, स्कंध, बँल की गरदन के ऊपर का भाग जिमपर जुड़ा रत्ता जाता है; (मुहा.)-डाल देना-बँल वा कंधे पर जुआ न लेना, पीट

मार या जिम्मेदारी लेने से भागना; -देना-अरथो होने में कंधा देना, मदद करना; -बदलना-पालकी के कहारों का बोझ एक कंध से दूसरे कंधे पर लेना।
 कंधार-(हि. पुं.) अफगानिस्तान का एक प्रदेश, कर्णधार, मल्लाह, केवट।
 कंधारी-(हि. वि.) कंधार देश का; (पुं.) कन्धार देश का घोड़ा।
 कंधावर-(हि. स्त्री.) वर के कन्धे पर रखने का दुपट्टा या चादर, वह रस्सी जिसमें तासा बाँधकर छाती पर लटकया जाता है।
 कंधियाना-(हि.क्रि.सं.) कन्धा देना, कंधे पर रखना।
 कंधेला-(हि. पुं.) स्त्रियों के कन्धे पर रहनेवाला वस्त्र का भाग।
 कंधेली-(हि. स्त्री.) अंडाकार गद्दी जो गाड़ी में जुते हुए घोड़े की गरदन पर रखी जाती है।
 कंधैया-(हि. पुं.) देखें 'कन्हैया'।
 कंध-(सं. पुं.) कांपना, हिलना।
 कंधकंधी-(हि. स्त्री.) कम्प, धरयरहट।
 कंध ज्वर-(सं. पुं.) जूड़ी-बुखार।
 कंधन-(सं. पुं.) कंध।
 कंधना-(हि. क्रि. अ.) थरथराना, कांपित होना, कांपना।
 कंधनी-(अं. स्त्री.) व्यापारियों का दल, व्यावसायिक मण्डली।
 कंधा-(हि. पुं.) लासा लगी हुई बाँस की लगी जिससे चिड़ीमार पक्षियों को फँसाकर पकड़ते हैं, कंधन, नया।
 कंधाना-(हि. क्रि. स.) इधर-उधर चलाना, हिलाना, डराना, भय दिखाना।
 कंधास-(अं. स्त्री.) कुतुबनुमा, परकाल, नापने का यन्त्र।
 कंधित-(सं. वि.) कांपता या हिलता हुआ।
 कंधू-(हि. पुं.) सेना के रहने का स्थान, छावनी, सिविर, डेरा।
 कंधस्त-(अ. वि.) कमदस्त, पाजी।
 कंधर-(हि. पुं.) देखें 'कंधल'।
 कंधल-(हि. पुं.) ऊन का बना ओढ़ना।
 कंधु-(सं. पुं.) शंख, हाथी, गला।
 कंधोज-(सं. पुं.) एक प्राचीन जगपद।
 कंधल-(हि.पुं.) देखें 'कमल', कामला रोग।
 कंधलगट्टा-(हि. पुं.) कमल का बीज।
 कंधस-(सं. पुं.) बरतन, काँसा, प्पान्त, कटोरा, आठ सेर की तोल, श्रीराम के माना का नाम।
 कंधक-(सं. पुं.) मोटे का मद्य, कसींग।
 कंधपार-(सं. पुं.) कसेरा।

कंधताल-(सं. पुं.) जाँझ, मजीरा।
 कंधुला-(हि. पुं.) काँसे का गड़दा किया हुआ पासा जिसमें लौकर सोनार धुंधल आदि बनाते हैं।
 कंधुली-(हि. स्त्री.) छोटा कंधुला।
 कंधुवा-(हि. पुं.) एक कोड़ा जो ईंट की फसल को नष्ट करता है।
 कंधई-(हि. स्त्री.) दोनों ओर दाँते का छोटा कंधा, पुरानी छोटे वाजार की ईंट।
 कंधड़ी-(हि. स्त्री.) नूनि पर फँलने-वाली एक लता जिसका लंबा फल खाया जाता है; (मुहा.)-का चोर-बहुत ही छोटा अपराध करनेवाला।
 कंधना-(हि.पुं.) कंकण, इमली का फल।
 कंधनी-(हि. स्त्री.) छोटा बंगन, इनली का छोटा फल, एक प्रकार की मिठाई।
 कंधनू-(हि. पुं.) एक पक्षी जिसके विषय में कहा जाता है कि इसके गाने से घाँसला जल जाता है।
 कंधराली-(हि.स्त्री.) काँख का कड़ा फोड़ा।
 कंधरी-(हि. स्त्री.) देखें 'कंधड़ी'।
 कंधरील-(हि. पुं.) खेखसा।
 कंधवा-(हि.पुं.) एक यन्त्र जिससे जुआहे कारगह में भरनी के तागे भरते हैं।
 कंधहरा-(हि. पुं.) वर्णसमूह, 'क' से 'ह' तक अक्षर।
 कंधही-(हि. स्त्री.) कंधी, एक प्रकार की कपास।
 कंधुत्सप-(सं.पुं.) इन्द्रवाकु वंश का एक गाथा।
 कंधुद(द)-(सं.पुं.) बँल के कंधे परका कंधुद, डिल्ला, ध्वज, राजचिह्न, घोटी, गिनार।
 कंधुन-(सं.पुं.) अर्जुनवृक्ष, कुटन; (स्त्री.) दिना, एक रागिणी का नाम।
 कंधुना-(सं. स्त्री.) दिना, मालतोस की पाँचवीं रागिणी।
 कंधुह-(सं. पुं.) गाड़ी का वह भाग जिस पर गाड़ीवान बैठता है।
 कंधेड़ा-(हि. पुं.) चिचिड़ा, मेराना।
 कंधैया-(हि. स्त्री.) नगीरिया ईंट।
 कंधेष्ट-(हि. पुं.) तमासु की मेंरी या मुरी पत्ती जो छोटी चिरम में रखकर पी जाती है।
 कंधका-(हि. पुं.) काना।
 कंध-(सं. पुं.) बालुआ, बगल, बाँस, गला, कंधल, बाँस, मुरत बगल, पार, कमरा, बाँस का फँदा, जंबल, लोके के फुलने का नाम, मिरीच जम्बेरी, अनासुर, भैंग, मेना के दोनों ओर का भाग, नमन, बगल, धू, कंधा, मुदा का कंधा

कदप-(सं. पुं.) कच्छप, कटुआ।
 कदा- (सं. स्त्री.) हाथी को बाँधने का रस्सा, कोठरी, बराबरी, काष्ठ, लांग, विरोध, राजा का अन्तःपुर, अंचल, तुलना, श्रेणी, दरजा; -पट-(सं. पुं.) कोपीन, काँठ।
 कदवाली, कदौरी-(हि. स्त्री.) काँच की फोड़िया।
 कदर-(हि. पुं.) ऊँचा किनारा, ओंठ, सीमा, मेड़, बारी, कंगनी, भीत में उभड़ी हुई पट्टी; (अव्य.) किनारे पर, अलग।
 कदर- (हि. पुं.), कदरी-(हि. स्त्री.) ऊँचा किनारा, नदी का करारा, भूमि का ऊँचा भाग, टीला।
 कद- (सं. पुं.) केश, बाल, सूखा हुआ व्रण, मेघ, वन्चन, झुंड, शोभा, बालक, बृहस्पति के पुत्र का नाम, कपड़े का किनारा; (हि. वि.) कच्चा; (पुं.) घँसने या चुमने का शब्द।
 कदर- (हि. स्त्री.) बचने या कुचल जाने से उत्पन्न चोट।
 कदकच-(हि. स्त्री.) बकझक, बातों का झगड़ा, किचकिच।
 कदकचाना-(हि. क्रि. अ.) कचकच करना, झुद्ध होना, बातों का झगड़ा करना, दाँत पीसना।
 कदकड़(ड़ा)-(हि. पुं.) कछुवे की खोपड़ी।
 कदवाना-(हि. क्रि. अ.) दबना, कुचलना, टोंकर लगना।
 कदकाना-(हि. क्रि. स.) चुमाना, घँसाना, तोड़ना।
 कदकोल-(हि. पुं.) कपाल, खोपड़ी, खप्पर, नारियल का बना हुआ मिलापात्र।
 कदट-(हि. स्त्री.) कचक या टक्कर, ठेस, एक प्रकार का शाक।
 कदड़-पचड़-(हि. पुं.) कचपच, बकझक।
 कदड़ा-(हि. पुं.) कूड़ा-करकट, झाड़न, नगोयुक्त अन्न, कपास, बिनीला।
 कददिला-(हि. वि.) दुबल हृदय का, उरपोक, भीर।
 कदनार-(हि. पुं.) सुगन्धित फूलों का एक वृक्ष, इसकी कलियों की तरकारी भी बनती है।
 कदपच-(हि. पुं.) भीड़भाड़, कचकच, नृत्यमगृत्या।
 कदपचिया, कदपची-(हि. स्त्री.) कृत्तिका नक्षत्र जिसमें अनेक छोटे-छोटे नक्षत्र रहते हैं, स्त्रियों के माथे में लगाने की चमकीले बूंदों की टिकुली।

कदपेंदिया-(हि. वि.) कच्ची पेंदी का, हीन, अस्थिर विचार का, ऊटपटांग बकनेवाला।
 कदवची-(हि. स्त्री.) देख 'कचपची'।
 कदर-कदर-(हि. पुं.) कच्चा फल खाने पर मुख से निकलनेवाला शब्द, कचपच, बकझक।
 कदरकूट-(हि. पुं.) मारपीट, लात-जूता, पेट भरकर भोजन।
 कदरघान-(हि. पुं.) भीड़भाड़, गुत्थम-गुत्था, मारपीट।
 कदरना-(हि. क्रि. स.) पैर से कुचलना, रौंदना, खूब पेट भर भोजन करना।
 कदर-पचर-(हि. पुं.) कचपच, गिचपिच।
 कदरा-(हि. पुं.) कूड़ा-करकट, ककड़ी, फूट का कच्चा फल, उड़द या चने की ककड़ी, समुद्री सेवार, छिलका लगी हुई दाल।
 कदरी-(हि. स्त्री.) ककड़ी की जाति की एक लता, पेहटा, छिलकेदार दाल, रूई का विनीला।
 कदलंपट-(हि. वि.) व्यभिचारी।
 कदला-(हि. स्त्री.) काली चिकनी मिट्टी।
 कदलोंदा-(हि. पुं.) कच्चे आटे का बना हुआ पेड़ा, साने हुए आटे की लोई।
 कदलोन-(हि. पुं.) काँच की भट्टियों में जमे हुए धार से बना हुआ नमक।
 कदलोहा-(हि. पुं.) कच्चा लोहा।
 कदलोह-(हि. पुं.) व्रण में से निकलने-वाला पंछा।
 कदवाँसी-(हि. स्त्री.) एक बिस्वे का वीसवाँ भाग।
 कदहरी-(हि. स्त्री.) न्यायालय, कार्यालय, राजसभा, दरवार, गोष्ठी, जमघट।
 कदवाई-(हि. स्त्री.) कच्चापन, अनुभव-हीनता।
 कदकची-(हि. स्त्री.) विवाद, झगड़ा।
 कदकाना-(हि. क्रि. अ.) कच्चा पड़ना, साहस हारना।
 कदकपेच-(हि. स्त्री.) कच्चेपन की गन्ध।
 कदकपन-(हि. स्त्री.) बकझक, कहाँ-सुनी।
 कदकार-(हि. पुं.) नदी के किनारे का छिछला पानी।
 कदकारना-(हि. क्रि. स.) कपड़ा धोना।
 कदकाल-(हि. पुं.) घुड़ियाँ, अरुई, वंडा, एक प्रकार की चाट; (मुहा.) -करना या बनाना-खद पीटना।
 कदकवट-(सं. स्त्री.) आम की खटाई।
 कदकस-(हि. स्त्री.) देखें 'कदवाई'।
 कदकिया-(हि. स्त्री.) हँसुवा, हँसिया।

कदकियाना-(हि. क्रि. अ.) हताश होना, भयभीत होना, सकुचाना, लज्जा मानना।
 कदकीची-(हि. स्त्री.) कृत्तिका नक्षत्र, दाढ़, जवड़ा; (मुहा.)-बाँधना-दाँत बैठ जाना।
 कदकुल्ला-(हि. पुं.) चौड़ी पेंदी का कटोरा।
 कदकूमर-(हि. पुं.) कुचलकर बनाया हुआ अचार, भर्ता, कुचली हुई वस्तु; (मुहा.)-करना या निकालना-कुचलना, कूटना, खूब पीटना।
 कदकूर-(हि. पुं.) हलदी के समान एक पौधा जिसकी जड़ में कपूर के समान तीव्र गन्ध होती है, कटोरा।
 कदकेरा-(हि. पुं.) काँच का काम करने-वाला, कँचेरा।
 कदकोटना-(हि. क्रि. अ.) गड़ना, चुमना, संताप होना।
 कदकोना-(हि. क्रि. अ.) चुमाना, घँसाना।
 कदकोरा-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का धान्य; (हि. पुं.) कटोरा, प्याला।
 कदकोरी-(हि. स्त्री.) कटोरी, प्याली।
 कदकोड़ी, कदकोरी-(हि. स्त्री.) उड़द की पीठी आदि में मसाला मिलाकर आटे की लोई के भीतर भरकर घी या तेल में पकाई पूरी।
 कदकचर-(सं. वि.) मलिन, मैला, दुष्ट।
 कदकचा-(हि. वि.) अपक्व विनापका हुआ, हरा, विना रस का, अप्रस्तुत, अस्थायी, अयुक्त, न्यून, अपूर्ण, नियम-रहित, अनभ्यस्त, अपरिपुष्ट, प्रमाणों से दृढ़ न किया हुआ, अदृढ़; (पुं.) धागा, दूर-दूर की सीयन, डाँचा, जवड़े का जोड़, दाढ़, ताँवे का छोटा सिक्का, सच्चा वृत्तान्त जिसको कच्चा चिट्ठा कहते हैं; -कागज-(पुं.) जो लेख्य प्रामाणिक न हो; -चिट्ठा-(पुं.) पूरा विवरण, सच्चा हाल, -चूना-(पुं.) पानी में न वृद्धनेवाला चूना; -टाँका-(पुं.) राँगें का जोड़; -तागा-(पुं.) विना बटा हुआ धागा; -पक्का-(वि.) सिखा और अनसिखा, अपरिपक्व; -बाना का माल-(पुं.) नकली गोटे-पट्टे का माल; -पैसा-(पुं.) न चलनेवाला पैसा; -माल-(पुं.) व्यवहार की वस्तुएँ बनाने की सामग्री; यथा-तेलहन, रूई, धातु इत्यादि; -सेर-(पुं.) सेर जो प्रामाणिक तौल से कम हो; -हाय-(हि. पुं.) अन्यास 'न होने के कारण किसी काम को करने के लिए हाय का न बैठना; कच्ची घड़ी-(स्त्री.) चौबीस मिनट का

काल; कच्ची चीनी-(स्त्री.) गला-
कार स्वच्छ न की हुई चीनी; कच्ची
जवान-(स्त्री.) गाली, अपगन्ध; कच्ची
जाकड़-(स्त्री.) ठीक तौर पर न
बिके हुए माल के लेन-देन की वही;
कच्ची नकल-(स्त्री.) लेख्य की अप्र-
माणिक नकल; कच्ची नौद-(स्त्री.)
अवुरी नौद; कच्ची वही-(स्त्री.)
पूर्ण रूप से निश्चित न किये हुए हिसाब
लिखने की व्यापारी की वही; कच्ची
मिती-(स्त्री.) पक्की मिती से पहिले का
या रूपया मिलने या चुकाने का दिन;
कच्ची रसोई-(हि. स्त्री.) केवल जल में
पका हुआ भोजन, (दाल, मात, रोटी
इत्यादि); कच्ची रोकड़-(स्त्री.) प्रति-
दिन के आय-व्यय लिखने की वही जिसमें
ऐसा हिसाब लिखा जाता है जो पूर्ण
रूप से स्थिर न हो; कच्ची शक्कर-
(स्त्री.) राव से जूसी अलगाकर बनाई
हुई चीनी; कच्ची सड़क-(स्त्री.)
कंकड़-पत्थर से न पिटी हुई सड़क;
कच्ची सिलाई-(स्त्री.) दूर-दूर पर
टांका लगाई हुई सिलाई; कच्चे-वच्चे-
(पुं.) छोटे वच्चे, बहुत-से वच्चे; (मुहा.)
-करना-वात काटना, कच्ची सिलाई
करना; -पड़ना-गलत या कमजोर
ठहरना; कच्ची करना-चौसर आदि
में अपनी लाल या पक्की गोटी को फिर
वाहर करना; कच्ची गोटी खेलना-
अनाड़ी या अनुभवहीन होना; कच्चे
घड़े पानी भरना-कठिन या दुष्कर कार्य
करना।
कच्चू-(हि. स्त्री.) अरुई, वंडा, घुइयाँ।
कच्छ-(सं. पुं.) जल के पास की भूमि,
कछार, अनुपदेश, नदी या तालाव
के सामने का मैदान, वस्त्र का अञ्चल,
पानी से गरा हुआ स्थान, एक प्राचीन
नगर का नाम; (पुं.) छप्पय छन्द
जिनमें १५२ मात्राएँ होती हैं, कछुआ,
घोती की लांग।
कच्छप-(सं. पुं.) कर्म, कछुआ, विष्णु का
एक अवतार, कुबेर की एक निधि, मल्ल-
युद्ध की एक युक्ति, समका, विरवाभिन्न
के एक पुत्र का नाम, बोहे का एक नैद;
-यंत्र-(पुं.) औषधि बनाने का एक यन्त्र।
कच्छपिका-(सं. स्त्री.) छोटी-छोटी फुलियाँ
का एक रोग।
कच्छपी-(सं. स्त्री.) माया कच्छप, कछुई,
नस्स्यती की धोपा।
कच्छपात-(सं. पुं.) नदी या झील का तिनारा

कच्छा-(हि. पुं.) बड़ी नाव जिसके
सिरे चिपटे आँर चौड़े होते हैं; कई
नावों को मिलाकर बना हुआ वेड़ा।
कच्छी-(हि. वि.) कच्छदेशीय, कच्छ
देश में उत्पन्न, कच्छ देश का घोड़ा
जिसकी पीठ गहरी होती है; (पुं.)
कच्छ देश का निवासी; (स्त्री.) वहाँ
की भाषा।
कच्छू-(हि. पुं.) कच्छप, कछुआ, खुजली।
कच्छकोल-(हि. पुं.) नीख माँगने का
खप्पर, मित्रापात्र।
कछना-(हि. पुं.) घुटने तक चढ़ाकर
पहिनी हुई घोती, कछनी।
कछनी-(हि. स्त्री.) छोटी घोती, घुटने
तक चढ़ाकर पहिनने की घोती, खाय-
वस्तु का काँचकर निकाला जानेवाला
यत्किंचित शेष-भाग।
कछरा-(हि. पुं.) चौड़े मुँह का घड़ा।
कछरी-(हि. स्त्री.) छोटा कछरा, गगरी।
कछवारा-(हि. पुं.) साग, तरकारी बोन
का खेत।
कछवाहा-(हि. पुं.) राजपूतों की एक जाति।
कछान, कछाना-(हि. पुं.) घुटने के
ऊपर चढ़ाकर धोती पहिनना।
कछार-(हि. पुं.) नदी या समुद्र के किनारे
की नीची भूमि।
कछियाना-(हि. पुं.) काँछियों की वस्ती।
कछु-(हि. वि.) देखें 'कुछ'।
कछुआ-(हि. पुं.) देखें 'कच्छप'।
कछुई-(हि. स्त्री.) कच्छपी।
कछुक-(हि. वि.) कुछ, थोड़ा-सा।
कछुवा-(हि. पुं.) देखें 'कच्छप'।
कछोटा, कछोटा-(हि. पुं.) काँच,
कछनी, लांग।
कजनी-(हि. स्त्री.) पात्र सुरचने का
एक साधन।
कजरा-(हि. पुं.) काजल, काष्ठी आँस
का बेल; (वि.) जिसकी आँस काजल
लगी हुई ती देव पड़े।
कजरारी-(हि. स्त्री.) श्यामता, कालापन।
कजरारा-(हि. वि.) कज्जलपुस्त, काजल
लगा हुआ, श्यामवर्ण का, काला।
कजरी-(हि. स्त्री.) बरसात में गाने
की एक रागिनी, एक त्योहार जिसमें
स्त्रियाँ कजरी गाती हैं, कजली, काली
रंग की रंग।
कजरीटा-(हि. पुं.) काजल रखने की
उंडी लगी हुई चिबिया।
कजरीटी-(हि. स्त्री.) छोटा कजरीटा।
कजला-(हि. पुं.) काजल, काजल;

(वि.) काली बाँसवाला।
कजलाना-(हि. क्रि. अ., स.) काला
पड़ना, कम पड़ना, वुजना, सँवाना,
काजल लगाना, बाँजना।
कजली-(हि. स्त्री.) श्यामता, कालिय,
पारा और गन्धक पीसकर बनाई हुई
बुकनी, काली बाँस की गाँव, भादों
बदी तीज का त्योहार, जब के नये
अंकुर, एक प्रकार की ईल, बरसात
में गाने का एक गीत।
कजली तीज-(हि. स्त्री.) भादों बदी तीज।
कजा-(अ. स्त्री.) ईश्वरीय या ईवी
बादेश, नाग्य, मौत; (मुहा.)-आना-
मौत आना।
कजाक-(हि. पुं.) देखें 'कज्जाक'।
कजाकी-(हि. स्त्री.) देखें 'कज्जाकी'।
कजावा-(फा. पुं.) कैंट की पीठ पर
रखने की काठी।
कज्जी-(फा. स्त्री.) टेढ़ाई, ऐब, दोष, कसर।
कज्जल-(सं. पुं.) अञ्जन, काजल,
सुरमा, कालिय, मेघ, बादल, चौदह
मात्राओं का एक छन्द।
कज्जलित-(सं. वि.) काजल लगा हुआ।
कज्जली-(सं. स्त्री.) पारा तथा गन्धक
घोंटी हुई बुकनी, एक प्रकार की
मछली, स्याही।
कज्जाक-(तु. पुं.) एशियाई रस की एक
तुक्त जाति, डाकू, लुटेरा।
कज्जाकी-(तु. स्त्री.) लुटेरापन, राहजनी।
कट-(सं. पुं.) हाथों की कनपटी, कमर,
घास, सरपत, घाव, सनय, नरकट की
चटाई, घासफूस की टट्टी, बधिकता,
रस, सरकंडा आदि घास, बरयो,
रमजान, घोड़दोड़ का मैदान; (हिं-
पुं.) काला रंग, काट, तरान।
कटक-(सं. पुं.) पहाड़ के बीच का
स्थान, चक्र, चड़ी, सेना, हाथी के दाँत
का गहना, सँघा नमक, राजधानी,
मिबिर, डेरा, रस्ती, पहाड़ की गगनतार
भूमि, समूह, बलय, पूँजार की बनी
हुई चटाई, गोंदरी, उड़ोता प्रान्त के
एक नगर तथा जिले का नाम।
कटकी-(हि. स्त्री.) मेना।
कटकट-(हि. स्त्री.) दाँतों के कट-
कटाने का शब्द, कटार, कटका।
कटारवाना-(हि. क्रि. अ.) दाँतों का
कट होना, दाँत पीगना।
कटकटिका-(हि. स्त्री.) कटकट की धोपा।
कटकटि-(हि. स्त्री.) देखें 'कटकट'।
कटकार-(सं. पुं.) मित्रापात्र, कटार

वगैरह बनानेवाला ।
 कटकी—(सं. पुं.) गज, हाथी, सेना;
 (वि.) कटक नगर का; (पुं.) कटक
 का वासी ।
 कटकुटी—(सं. स्त्री.) पर्णशाला, झोपड़ी ।
 कटरना—(हि. वि.) दाँत से काटनेवाला;
 (पुं.) काट-छाँट, युक्ति ।
 कटघरा—(हि. पुं.) जंगले का लगा
 हुआ काठ का घर, बड़ा पिंजड़ा ।
 कटजीरा—(हि. पुं.) काला जीरा ।
 कटड़ा—(हि. पुं.) भैंस कानरवच्चा, पेंडवा ।
 कटताल—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का
 वाजा, करताल ।
 कटती—(हि. स्त्री.) विक्री, माँग, (घन,
 गल्ले आदि) में से काटा जानेवाला
 भाग, छूट ।
 कटना—(हि. क्रि. अ.) दो टुकड़े होना,
 प्रवेश करना, घुसना, महीन चूर्ण
 होना, अलग होना, छूटना, गुजरना,
 चीतना, समाप्त होना, छीजना,
 कतरा जाना, घोखा देकर चल देना,
 गञ्जित होना, डाह करना, मोहित
 होना, प्राप्ति होना, खपना, मिटना,
 घँसना, पूरा-पूरा भाग होना (जिसमें शेष
 न बचे); (मुहा.) कटती कहना—मर्म-
 भेदी बातें करना; कट मरना—कटकर
 मर जाना; कटे पर नमक छिड़कना—
 दुखिया को और अधिक कष्ट देना ।
 कटनास—(हि. पुं.) नीलकंठ पक्षी ।
 कटनि—(हि. स्त्री.) काट-छाँट ।
 कटनी—(हि. स्त्री.) कतरनी, कटाई,
 तिरछी दाँड़, काटने का औजार ।
 कटर—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास ।
 कटरा—(हि. पुं.) छोटा चीकोर हाट,
 भैंस का पेंडवा ।
 कटरिया—(हि. पुं.) एक प्रकार का धान ।
 कटेरी—(हि. स्त्री.) नदी के किनारे
 की नीची भूमि ।
 कटेरेती—(हि. स्त्री.) लकड़ी रेतने
 का एक औजार, रैती ।
 कटल्ल—(हि. पुं.) व्याघ्र, मांस बेचनेवाला ।
 कटवा—(हि. वि.) कटा हुआ, काटकर
 बना हुआ ।
 कटवाना—(हि. क्रि. स.) काटने या कटने
 में प्रयुक्त करना ।
 कटसरया—(हि. स्त्री.) एक काँटेदार पाँया ।
 कटार—(हि. पुं.) देखें 'कटहल' ।
 कटहरा—(हि. पुं.) कटघरा, काठ का
 जंगलेदार घर ।

कटहल—(हि. पुं.) एक वृक्ष जिसमें
 हाथ भर लंबे मोटे फल लगते हैं, पनस ।
 कटहा—(हि. वि.) दाँत से काटनेवाला
 (जानवर) ।
 कटा—(हि. स्त्री.) वध, मारकाट, हत्या;
 (वि.) टूटा-फूटा, कटा हुआ ।
 कटाइक—(हि. पुं.) काटनेवाला ।
 कटाई—(हि. स्त्री.) प्रहार, काटने का
 काम, अन्न का काटा जाना, काटने
 का शुकल ।
 कटाऊ—(हि. वि.) काट-छाँट किया हुआ ।
 कटाफट—(हि. पुं.) कटकट का शब्द,
 लड़ाई-झगड़ा ।
 कटाकटी—(हि. स्त्री.) वध, मार-काट ।
 कटाक्ष—(सं. पुं.) तिरछी चितवन, आक्षेप ।
 कटाछनी—(हि. स्त्री.) वध, युद्ध,
 मारकाट, तर्क ।
 कटान—(हि. स्त्री.) काटने का कार्य ।
 कटाना—(हि. क्रि. स.) छेद कराना, काटने
 का काम दूसरे से कराना, घुमाना,
 बचाना, (गाड़ी आदि) जरा बचा
 कर या घुमाकर ले जाना ।
 कटार—(हि. स्त्री.) दोनों ओर धार का
 छोटा अस्त्र, एक तरह का वन-विलाव ।
 कटारा—(हि. पुं.) बड़ी कटार, इमली का फल ।
 कटारिया—(हि. पुं.) एक प्रकार का
 रेशमी वस्त्र ।
 कटारी—(हि. स्त्री.) कटार, एक प्रकार
 का छोटा अस्त्र ।
 कटाली—(हि. स्त्री.) भटकटैया ।
 कटाव—(हि. पुं.) काटछाँट, वनावटी
 बेल-बूटे जो कपड़ा काटकर बनाये
 जाते हैं; -दार—(वि.) जिस पत्थर
 या लकड़ी पर बेलबूटे खोदकर या
 काटकर बनाये गये हों ।
 कटावन—(हि. पुं.) कटाव का काम,
 कतरन, कटा हुआ भाग ।
 कटास—(हि. पुं.) कटार, एक प्रकार
 की जंगली विल्ली, वनविलाव ।
 कटासी—(हि. स्त्री.) शव गाड़ने का स्थान ।
 कटाह—(सं. पुं.) कछुवे की खोपड़ी, तेल
 या घी रखने का पात्र, नरक विशेष,
 भैंस का सींग, निकलता हुआ बच्चा,
 नूर्य, कुआँ, ऊँचा टीला, बड़ी कड़ाही ।
 कटि—(सं. स्त्री.) शरीर का मध्य भाग,
 कमर, हाथी की कनपटी, मन्दिर का
 द्वार, घुमची ।
 कटिका—(सं. स्त्री.) पतली कमरवाली स्त्री ।
 कटिकुप—(सं. पुं.) चूतड़ का गड्ढा ।
 कटिजव—(हि. स्त्री.) कमर का अमू-

ण, करघनी, मेखला ।
 कटितट—(सं. पुं.) कमर, नितम्ब, चूतर ।
 कटिन्न—(सं. पुं.) कमरबंद, करघनी ।
 कटिदेश—(सं. पुं.) श्रोणी, कमर ।
 कटिवंध—(सं. पुं.) कमरबंद, पृथ्वी का
 वह भाग जो शीतलता और उष्णता के
 अनुसार निर्धारित होता है ।
 कटिवद्ध—(सं. वि.) कमर कसकर तैयार,
 तत्पर, उद्यत ।
 कटिया—(हि. पुं.) नगीने बनानेवाला;
 (स्त्री.) पशुओं का चारा जो ज्वार,
 मकई इत्यादि के डंठलों को काटकर
 बनाया जाता है, मस्तक का एक अलं-
 कार, मछली फँसाने का काँटा, कँटिया ।
 कटियाना—(हि. क्रि. अ.) रोमांचित होना,
 रोएँ खड़े होना ।
 कटियाली—(हि. स्त्री.) भटकटैया ।
 कटिशूल—(सं. पुं.) कमर की पीड़ा ।
 कटिसूत्र—(सं. पुं.) कमर में पहिने
 का आभूषण, करघनी ।
 कटीरा—(हि. पुं.) देखें 'कतीरा' ।
 कटील—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की कपास ।
 कटीला—(हि. वि.) काटनेवाला, तीक्ष्ण,
 पैना, प्रभावशाली, हृदयप्राही, नोकदार,
 मोहित करनेवाला, काँटेदार; (पुं.)
 एक नोकदार लकड़ी जो गाय-भैंस के
 वच्चों की नाक पर बाँध दी जाती है
 जिसमें वे माँ का दूध न पी सकें ।
 कटु—(सं. वि.) कड़वा, तीता, कसैला,
 अप्रिय, तीक्ष्ण, उष्ण, कुत्सित, विरस;
 -कंद—(सं. पुं.) लशुन, लहसुन; -ग्रंथि—
 (सं. पुं.) पिपलामूल, सोँट, लहसुन;
 -ता—(सं. स्त्री.) उग्रता, तीक्ष्णता,
 कड़ापन, अप्रियता, तेजी; -तुंबी—
 (सं. स्त्री.) कड़वी लौकी; -तेल—
 (सं. पुं.) कड़वा तेल, सरसों का तेल;
 -त्व—(सं. पुं.) कड़वापन, चरपराहट;
 -फल—(सं. पुं.) कायफल, कड़वी ककड़ी,
 करेला; -भाषी—(सं. वि.) कर्कश शब्द
 बोलनेवाला ।
 कटुआ—(हि. पुं.) व्यापारी के पास
 प्रतिदिन आनेवाली वस्तु जिसका
 मूल्य वाद में इकट्ठा होता है ।
 कटुक—(सं. वि.) अप्रिय, नागवार ।
 कटुकत्व—(सं. पुं.) कटुता ।
 कटुरा—(सं. स्त्री.) कच्ची हल्दी ।
 कटुवित—(सं. स्त्री.) अप्रिय वार्ता, विघ्न-
 कारक बात ।
 कटुमर—(हि. पुं.) जंगली गूलर ।
 कटेरी—(हि. स्त्री.) भटकटैया ।

कटेली-(हि.स्त्री.) एक प्रकार की कपास।
 कटैया-(हि.पुं.) काटनेवाला।
 कटैला-(हि.पुं.) एक प्रकार का बहु-
 मूल्य पत्थर।
 कटोरदान-(हि.पुं.) पका हुआ भोजन
 खाने का ढपनेदार कटोरा।
 कटोरा-(हि.पुं.) (स्त्री. कटोरी) चौड़ी
 पेंदी तथा खुले मुँह का बड़ा प्याला।
 कटोरिया-(हि.स्त्री.) छोटा कटोरा।
 कटोरी-(हि.स्त्री.) छोटा कटोरा,
 तलवार की मुठिया का उभड़ा हुआ
 गोल भाग, फूल के ऊपर का गोल भाग,
 चोली का वह भाग जिसके भीतर
 स्तन रहते हैं।
 कटौती-(हि.स्त्री.) (रकम आदि
 में से) काटकर निकाला जानेवाला
 अंश, अन्न बेचते समय अथवा खेत
 से घर ले जाते समय उसमें का वह
 अंश जो धर्मार्थ देने के लिए निकाल
 दिया जाता है;—का प्रस्ताव-(पुं.)
 किसी विभाग में होनेवाले अधिक
 ध्यय को कम करने के लिए विधान
 सभा द्वारा पेश होनेवाला प्रस्ताव।
 कटौती-(हि.स्त्री.) अन्न काटने का काम।
 कट्टर-(हि.वि.) काट खानेवाला, कटहा,
 हठी, अन्धविश्वासी, दूसरे की बात
 को न माननेवाला।
 कट्टहा-(हि.पुं.) महाब्राह्मण, महापात्र।
 कट्टा-(हि.वि.) स्थूल, मोटा, पुष्ट,
 बलवान्, कड़ा; (पुं.) जवड़ा; (मुहा.)
 फट्टे लगाना—अपनी वस्तु का दूसरे के
 कब्जे में चले जाना।
 कट्टा-(हि.पुं.) भूमि की एक नाप
 जो पाँच हाथ चार अंगुल होती है, वातु
 मलाने की मटठी, अन्न नापने का पात्र।
 कट्टायाना-(हि.क्रि.अ.) रोमांचित होना।
 कट्टार-(सं.पुं.) कटार, कटारी।
 कट्टगर-(हि.वि.) स्थूल, मोटा, कठोर, कड़ा।
 कठ-(सं.पुं.) एक ऋषि का नाम,
 यजुर्वेद का एक उपनिषद्, एक वैदिक
 मन्त्र, ब्राह्मण, देवता, कृष्ण यजु-
 वेद की एक शाखा; (हि.पुं.) एक
 प्रकार का प्राचीन बाजा, समस्त पदों
 में इस शब्द का अर्थ 'काठ का बना
 हुआ' होता है, जैसे—कठपुतली।
 कठफोली-(हि.स्त्री.) काठ की फली
 या पत्तल।
 कठफेला-(हि.पुं.) जंगली केला जिसका
 फल रसता और पीया होता है।
 कठकोना-(हि.पुं.) कठकोट्या पक्षी।

कठगुलाव-(हि.पुं.) जंगली गुलाव
 जिसमें छोटे फूल होते हैं।
 कठड़ा, कठघरा-(हि.पुं.) काठ का घेरा, लकड़ी
 का बड़ा सन्दूक या बड़ा पात्र, कठीता।
 कठताल-(हि.पुं.) लकड़ी का करताल।
 कठपुतली-(हि.स्त्री.) लकड़ी की गुड़िया
 जिसमें तार बाँधकर नचाते हैं, दूसरे
 के कहने पर चलनेवाले पुरुष।
 कठफला-(हि.पुं.) कुकुरमुत्ता, छत्रक।
 कठफोड़वा-(हि.पुं.) भूरे रंग की एक
 चिड़िया जिसकी चोंच लंबी होती है।
 यह पेड़ों की छाल को छेदती और इसमें
 के कीड़े-मकोड़े खाती है।
 कठबंधन-(हि.पुं.) लकड़ी की वेड़ी,
 हाथी के पैर में डालने का अंडुवा।
 कठवाप-(हि.पुं.) सौतेला पिता।
 कठवेल-(हि.पुं.) कपित्थ, कैथ।
 कठवैद-(हि.पुं.) अनाड़ी वैद्य।
 कठमलिया-(हि.पुं.) काठ की माला
 पहिनेवाला, वैष्णव, वनावटी साधु।
 कठमस्त-(हि.वि.) हृष्टपुष्ट, हट्टा-
 कट्टा, व्यभिचारी।
 कठमस्ती-(हि.स्त्री.) गुण्डई, मस्ती,
 तगड़ापन।
 कठमाटी-(हि.स्त्री.) कीचड़ की मिट्टी
 जो सूखने पर बहुत कड़ी हो जाती है।
 कठरा-(हि.पुं.) काठ का बड़ा सन्दूक,
 काठ का पात्र, कठीता, कठघरा।
 कठरी-(हि.स्त्री.) छोटा कठरा।
 कठला-(हि.पुं.) बच्चों के पहिने का गले
 का एक आभूषण जो आधि-व्याधि से रक्षा
 करने के लिये इनको पहिनाया जाता है।
 कठवत, कठवता-(हि.पुं.) देखें 'कठीता'।
 कठवल्ली-(सं.स्त्री.) कृष्ण यजुर्वेद के
 कठ-शाखा का एक उपनिषद्।
 कठारा-(हि.पुं.) नदी या तालाब का
 किनारा, कछार।
 कठारी-(हि.स्त्री.) लकड़ी का पात्र,
 कमण्डलु।
 कठिका-(सं.स्त्री.) खटिका, खड़िया।
 कठिन-(सं.वि.) दृढ़, कड़ा, कठोर,
 निष्ठुर, तीक्ष्ण, दुःसह।
 कठिन चित्त-(सं.वि.) निर्दयी, क्रूर।
 कठिनता, कठिनताई-(सं., हि.स्त्री.)
 दृढ़ता, कठोरता, तीक्ष्णता, कड़ापन,
 अज्ञाप्यता, निर्दयता, पुष्टता।
 कठिनत्व-(सं.पुं.) देखें 'कठिनता'।
 कठिनपुष्ट-(सं.पुं.) कठिन, कठारा।
 कठिनहृदय-(सं.वि.) कठोरहृदय, निर्दय।
 कठिना-(सं.स्त्री.) कठार, कीनी, कठगुलरा

कठिनाई-(हि.स्त्री.) कठोरता, दृढ़ता,
 कड़ापन, किलप्टता, असुविधा, दिक्कत।
 कठिनी-(सं.स्त्री.) खटिका, खड़िया।
 कठिया-(हि.वि.) कड़े छिलकेवाला;
 (पुं.) एक प्रकार का गेहूँ।
 कठियाना-(हि.क्रि.अ.) कड़ा होना, मूखना
 काठ बन जाना, मूखकर कड़ा होना।
 कठुला-(सं.स्त्री.) बच्चों के गले में,
 पहिने की माला।
 कठुवाना-(हि.क्रि.अ.) सूखकर कड़ा
 हो जाना, तरी निकल जाना, ठंठक से
 हाथ-पैर ठिठुरना।
 कठैठ, कठैठा-(हि.वि.) कड़ा, पुष्ट।
 कठैल-(हि.पुं.) धुनियों की कमान
 जिससे रूई धुनी जाती है।
 कठैला-(हि.पुं.) कठीता।
 कठैली-(हि.स्त्री.) छोटा कठीता।
 कठैवर-(हि.पुं.) वह रोग जिसमें
 पेट काठ की तरह कड़ा होता है।
 कठैर-(सं.वि.) कठिन, कड़ा,
 निष्ठुर, निर्दय, क्रूर कर्म करनेवाला,
 दारुण, तीक्ष्ण, अवरोधी;—ता-
 (सं.स्त्री.) कठिनता, कड़ापन, निर्द-
 यता, कड़ाई—ताई-(हि.स्त्री.)
 -पन-(हि.पुं.) देखें 'कठोरता'।
 कठीत-(हि.स्त्री.), कठीता-(हि.पुं.)
 लकड़ी का बड़ा पात्र, कठरा।
 कठीती-(हि.स्त्री.) छोटा कठीता।
 कड़-(हि.पुं.) कमर, युमुम का बीज।
 कड़क-(सं.पुं.) समुद्री लवण; (हि.
 स्त्री.) कठोर शब्द, विजली, तड़प,
 घोड़े को एक चाल, इन्द्रियों में दाह
 होने का एक रोग, कठोरता, कड़ापन,
 एक-एककर होनेवाली पीड़ा, एक-
 एक कर जलन के साथ मूत्र निकलना।
 कड़कड़-(हि.पुं.) दो वस्तुओं के परस्पर
 टकराने का शब्द, कठोर शब्द, कड़े
 पदार्थ का टटने का शब्द।
 कड़कड़ाता-(हि.वि.) कड़कड़ शब्द करना
 हुआ, चटपटा हुआ, तीव्र, घोर, कटा।
 कड़कड़ाना-(हि.क्रि.अ., पुं.) कड़कड़
 शब्द होना, ऐसे शब्द के मान नोटाना,
 पी-नेल इत्यादि को कपाना, रंग
 करना, चिल्लाना।
 कड़कड़ाहट-(हि.स्त्री.) कठोर शब्द,
 कठोर शब्द, शब्द।
 कड़कना-(हि.क्रि.अ.) कड़कना, कड़-
 कड़ाना, चटपटाना, कड़ा शब्द होना,
 टटाना-कड़ाना, शब्दाना, शोडाना, शब्दाना,
 चिल्लाना।

कड़कनाल—(हि.स्त्री.) चीड़े मुंह की तोप ।
 कड़कवाँका—(हि.पुं.) बलवान् युवा पुरुष ।
 कड़क-विजली—(हि. स्त्री.) कान में पहिने का स्त्रियों का एक आभूषण, चांदवाला ।
 कड़का—(हि. पुं.) कठोर शब्द ।
 कड़खा—(हि. पुं.) युद्ध-संगीत, लड़ाईके समय गाया जानेवाला गीत ।
 कड़खंत—(हि. पुं.) कड़खा गानेवाला, बन्दी, भाट ।
 कड़बरा—(हि. वि.) कुछ सफेद और कुछ काले रंग का ।
 कड़रा—(हि.पुं.) कवरी दाढ़ीवाला मनुष्य ।
 कड़वा—(हि. पुं.) (स्त्री. कड़वी) हूल के फार पर वाँची जानेवाली कोई गोल वस्तु; (हि. वि.) कटु, झालदार ।
 कड़वी—(हि. स्त्री.) मकई और ज्वार के पीधे जो काटकर पशुओं को खिलाये जाते हैं ।
 कड़हन—(हि. पुं.) जंगली घान ।
 कड़ा—(हि. पुं.) हाथ या पैर में पहिने का कंगन या चूड़ा, छल्ला, लोहे का कुंडा, एक प्रकार का कबूतर; (वि.) न दबनेवाला, कठोर, कठिन, ठोस, रुखा, उग्र, जो ढीला न हो, जो गोला न हो, दृढ़, तीक्ष्ण, सवल, सहनशील, दुष्कर, दुःसाध्य, प्रचण्ड, तीव्र, असह्य, कफ़श, दुरा लगनेवाला; (मुहा.)—पड़ना—न दबना, बीच होना ।
 कड़ाई—(हि. स्त्री.) कठोरता, कड़ापन ।
 कड़ाका—(हि. पुं.) किसी कड़े पदार्थ के टूटने का शब्द, उपवास, लंघन; कड़ाके का—तीव्र, प्रचण्ड, अति ।
 कड़ादीन—(हि. स्त्री.) चीड़े मुंह की बन्दूक, छोटी बन्दूक, तमंचा ।
 कड़ाहा—(हि. पुं.) (स्त्री. कड़ाही) लोहे की बड़ी कड़ाही, कड़ाह, (इसमें उठाने के लिए दोनों ओर कड़े लगे होते हैं) ।
 कड़ाही—(हि. स्त्री.) छोटा कड़ाहा ।
 कड़ियल—(हि. पुं.) मिट्टी के पात्र का टटा हुआ टुकड़ा ।
 कड़िया—(हि. स्त्री.) अरहर का सूखा ठंढल जो दाना निकाल लेने पर बच जाता है ।
 कड़ियाली—(सं.स्त्री.) घोड़े की लगाम ।
 कड़ो—(हि. स्त्री.) जंजीर की लड़ी का एक छल्ला, छोटा छल्ला, छोटी बरतन, कठिनता, अरुचन, संकट, दुःख, गीत का एक नाग, घोड़े की

लगाम, पशु की छाती पर की हड्डी; (वि.) सख्त, कठोर; -दार—(हि. वि.) छल्लेदार, जिसमें कड़ियाँ लगी हों; (मुहा.)—सुनाना—कड़ी या अप्रिय बातें कहना; -कैदी—(स्त्री.) वह कारावास का दंड जिसमें कैदी से कठिन परिश्रम करवाया जाता है ।
 कड़आ—(हि. वि.) कटु, स्वाद में तीखा, तीक्ष्ण प्रकृति का, क्रोधी, भला न मालूम होनेवाला, अप्रिय, कठिन, टेढ़ा; -घूंट—(पुं.) कठिन कार्य; -तेल—(पुं.) सरसों का तेल ।
 कड़आना—(हि. क्रि. अ.) कड़ुवा लगना, क्रोध करना, नाक-मौंह चढ़ाना, विगड़ना, पीड़ा देना, किरकिराना ।
 कड़आहट—(हि.स्त्री.) कटुता, कड़ुआपन ।
 कड़ई—(हि. वि. स्त्री.) कटु, चरपरी ।
 कड़ई रोटी—(हि. स्त्री.) मूतक के संबंधियों को इस उपलक्ष्य में कराया जानेवाला भोजन ।
 कड़फ—(हि. वि.) देखें 'कटु' ।
 कड़रा—(हि. पुं.) खरादकर पदार्थ बनानेवाला ।
 कड़ोड़ा—(हि. पुं.) उच्च पदाधिकारी ।
 कड़वा—(हि. वि.) ऋण लेकर अपना काम चलानेवाला ।
 कड़ना—(हि. क्रि. अ.) वाहर आना, निकलना, उदय होना, चढ़ना, देख पड़ना, त्विचना, बढ़ जाना, अग्रसर होना, घनीभूत होना, गाढ़ा होना, स्त्री का अपने पार के साथ घर छोड़कर भाग जाना ।
 कड़नी—(हि. स्त्री.) मथानी की रस्सी ।
 कड़लाना—(हि. क्रि. स.) हाथ या पैर पकड़कर घसीटना, लथेड़ना ।
 कड़ाई—(हि. स्त्री.) निकालने का काम, सूई का काम, कसीदा, कसीदा काढ़ने का पारिश्रमिक, कड़ाही ।
 कड़ाना, कड़वाना—(हि. क्रि. स.) वाहर करना, वाहर निकालना ।
 कड़ाव—(हि. पुं.) कसीदे का काम, सूई से बेल-बूटे बनाने का काम, कड़ाह ।
 कड़ी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का सालन जो बेंसन की पानी में पतला घोलकर कड़ाही में उवालकर तथा गाढ़ा करने से बनता है ।
 कड़आ (वा)—(हि. पुं.) मटके आदि में से पानी निकालने या नापने के काम में आनेवाला बरतन ।
 कड़वा—(हि.पुं.)निकाला हुआ या रात का रक्ता हुआ भोजन, ऋण, मिट्टी का पुरवा ।

कड़ैया—(हि. वि.) निकालनेवाला, अलम करनेवाला, उद्धारकर्ता; (स्त्री.) कड़ाही ।
 कड़ोरना—(हि. क्रि.स.) घसीटना, खींचना ।
 कण—(सं. पुं.) किनका, लेश, रवा, धूल का अत्यन्त छोटा टुकड़ा, जलविन्दु, चिन-गारी, चावल का महीन टुकड़ा, अन्न की बाल, परमाणु, रत्नमुक्त, भिक्षा ।
 कणगच्च—(हि.पुं.) केवाँच, करंज, करौंदा ।
 कणप—(सं. पुं.) बरछा, भाला ।
 कणाद—(सं. पुं.) वैशेषिक दर्शन के प्रणेता का नाम ।
 कणात्न—(सं. वि.) अन्न के कण खाकर जीविका चलानेवाला ।
 कणिका—(सं. स्त्री.) अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु, कण, टुकड़ा, किनका ।
 कणित—(सं. पुं.) पीड़ायुक्त शब्द ।
 कणिष्ठ—(सं. वि.) अन्य की अपेक्षा कम वय का, छोटा ।
 कणी—(सं. स्त्री.) कणिका, टुकड़ा, कनी ।
 कणैरा—(सं. स्त्री.) हाथी, बैश्या, रंडी ।
 कण्व—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
 कतई—(अ. अव्य.) विलकुल, एकदम ।
 कतकवृक्ष—(सं. पुं.) निर्मली का वृक्ष ।
 कतना—(हि. क्रि. अ.) काता जाना, तैयार होना ।
 कतनी—(हि. स्त्री.) सूत कातने की टेकुरी ।
 कतन्ना—(हि. पुं.) कतरने की बड़ी कैंची ।
 कतन्नी—(हि. स्त्री.) कतरनी, कैंची ।
 कतरछाँट—(हि. स्त्री.) काँट-छाँट ।
 कतरन—(हि. स्त्री.) कपड़े, कागज इत्यादि का कटा हुआ रट्टी टुकड़ा ।
 कतरना—(हि. क्रि. स.) कैंची से काटना, छाँटना, टुकड़े करना ।
 कतरनी—(हि. स्त्री.) बाल, कपड़े आदि काटने की कैंची, धातु की चद्दर काटने की सँझी के आकार की कैंची ।
 कतरव्योत—(हि. पुं.) काट-छाँट, कतराई, हेर-फेर, उलट-पलट, फेरफार, सोच-विचार, युक्ति, निकास, चोरी, जोड़-तोड़, ढंग, दूसरे के लिए कुछ मोल लेने में अपने लिये कुछ निकाल लेना ।
 कतरवाई—(हि. स्त्री.) कतरने का काम, कटाई का शुल्क ।
 कतरा—(हि. पुं.) खण्ड, अंश, टुकड़ा, कटा हुआ भाग, पत्यर का छोटा टुकड़ा, बड़ी नाव ।
 कतराई—(हि. स्त्री.) कतरने का काम, कटाई का पारिश्रमिक ।
 कतराना—(हि. क्रि. स.) कटाना, कतरवाना, बचकर निकल जाना ।

कतरी—(हि. स्त्री.) कोल्हू का पाट जिस पर बैठकर मनुष्य वृत्त को हाँकता है, कातर, हाथ में पहिने का पीतल का एक गहना, राजगीर की लकड़ी की पट्टी, कतरनी, कैंची।

कतल—(हि. पुं.) देखें 'कल'।

कतला—(हि. पुं.) किसी वस्तु का पतला टुकड़ा।

कतवाना—(हि. क्रि. स.) कातने का काम दूसरे से कराना।

कतली—(हि. स्त्री.) चौकोर कटी हुई मिठाई।

कतवार—(हि. पुं.) बेकाम का घास-फूस, कूड़ा-करकट।

कतहूँ, कतहूँ—(हि. अव्य.) किस ओर, किस स्थान पर।

कताई—(हि. स्त्री.) कातने का काम, कतौनी।

कतान—(हि. पुं.) एक प्रकार का रेवम जिस पर कलावस्तु बनता है, इससे बीना हुआ वस्त्र।

कताना—(हि. क्रि. स.) किसी दूसरे से कातने का काम कराना।

कतार—(अ. स्त्री.) पंक्ति, पाँत, क्रम।

कतारा—(हि. पुं.) एक प्रकार की लाल छिलके की मोटी ईख जिसका गुद्दा बहुत मीठा होता है।

कतारी—(हि. स्त्री.) पंक्ति, कतारे की जाति की छोटी ईख।

कति—(सं. वि.) कौन-सी संख्या का, कितना, बहुत से, अनगिनत।

कतिक—(हि. वि.) किस परिमाण का, कितना, बहुत-सा, अनेक।

कतिपय—(सं. वि.) कुछ, कितना ही, थोड़ा-सा, कई एक।

कतीरा—(हि. पुं.) एक वृक्ष का गोंद जो ओषधि में प्रयुक्त होता है।

कतेक—(हि. वि.) कितने, कतिक।

कतौनी—(हि. स्त्री.) कातने की क्रिया, बहुत देर तक प्रतीक्षा।

कतार—(हि. पुं.) स्त्रियों की चोटी बाँधने का डोरा।

कतल—(हि. पुं.) पत्थर का टुकड़ा, कतरा।

कता—(हि. वि.) बाँस चौरने का एक धतन, एक प्रकार की तलवार, पासा।

कतरी—(हि. स्त्री.) छुरी, छोटी तलवार, कटारी, एक प्रकार की कैंची जिनका गोंदार उपयोग करते हैं, एक प्रकार की पत्तरी।

कतरी—(हि. पुं.) देखें 'कतरी'।

कत्थई—(हि. वि.) खैर के रंग का।

कत्यक—(हि. पुं.) एक जाति विशेष के लोग जो नाचते-नाते हैं; नृत्य—(पुं.)

कत्यकों में प्रचलित एक नृत्य।

कत्या—(हि. पुं.) खैर की लकड़ी को उवालकर निकाला हुआ सत्व जो पान में खाया जाता है।

कल्ल—(अ. पुं.) जान से मार डालना, खून, हत्या; —की रात—(स्त्री.) मुहर्रम की दसवीं रात; कल्ले आम—(पुं.) सामूहिक वध जनवध।

कथं—(सं. अव्य.) किस रीति से, किस प्रकार से, क्यों, कहाँ से।

कथ—(हि. पुं.) देखें 'कत्या'।

कथक—(सं. पुं.) पौराणिक कथा बाँचकर जीविका निर्वाह करनेवाला, पौराणिक कथावाचक।

कथन—(सं. पुं.) कथा, वाक्य, वयान, बात।

कथना—(हि. क्रि. स.) बोलना, कहना, काव्य-रचना करना, निन्दा करना।

कथनी—(हि. स्त्री.) कथन, बातचीत, वकवाद, वद्वड़ाहट।

कथनीय—(सं. वि.) वर्णन करने योग्य, कहने योग्य, निन्दनीय, खराब।

कथनपि—(सं. अव्य.) किसी प्रकार से, किसी रूप से।

कथरी—(सं. स्त्री.) नागफनी; (हि. स्त्री.) पुराने चीखड़ों को जोड़कर बनाया हुआ विछौना, गुदड़ी।

कथांत—(सं. पुं.) बातचीत की समाप्ति।

कथांतर—(सं. पुं.) दूसरी वार्ता, कलह, झगड़ा।

कथा—(सं. स्त्री.) किस्सा, कहानी, तर्क, वार्ता, विवरण, वाक्य, धर्म-विषयक व्याख्यान, प्रसंग, चर्चा, उपन्यास, झगड़ा, वाद-विवाद।

कथानक—(सं. पुं.) गल्प, कहानी, कथा, छोटा किस्सा।

कथानुराग—(सं. पुं.) बातचीत में गम लगना।

कथामय—(सं. वि.) किरणों से भरा हुआ।

कथामुल—(सं. पुं.) कथा-ग्रन्थ की प्रस्तावना या भूमिका।

कथायोग—(सं. पुं.) कथाप्रस्तावना।

कथात्तं—(सं. पुं.) कथा का आरम्भ।

कथालाप—(सं. स्त्री.) बातचीत, बातचीत।

कथावस्तु—(सं. स्त्री.) उपन्यास या कथा का ढाँचा, कहानी या मूल विषय।

कथावार्ता—(सं. स्त्री.) कथा-वार्ता की बातचीत, कहानी।

कथाशेष—(सं. पुं.) कथा की समाप्ति।

कथिक—(हि. पुं.) देखें 'कथक'।

कथित—(सं. वि.) उच्चारित, कहा हुआ।

कथीर—(हि. पुं., स्त्री.) कस्तूर, रोगा।

कथोदय—(सं. पुं.) कथा का उदयापन।

कथोद्घात—(सं. पुं.) नाटक की प्रस्तावना, कथा का आरम्भ।

कथोपकथन—(सं. पुं.) कथा पर कथा, विविध वार्ता, बातचीत।

कथ्यनाम—(सं. वि.) कहा जानेवाला।

कथंघव—(हि. पुं.) निन्दित पथ, दुरा (छोटा) मार्ग।

कथंघ—(हि. पुं.) एक सदाबहार पेड़ जिसके फूल गंद जैसे गोल होते हैं।

कथंघक—(सं. पुं.) समूह, जुष्ट; (पुं.) हल्दी का पौधा।

कथंघका—(सं. स्त्री.) कलहंसी।

कथंघा—(सं. पुं.) सारहीन नाग।

कथ—(हि. स्त्री.) इर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, हठ, अनवन; (अव्य.) कथ, किस समय; (पुं.) देह की ऊँचाई, डीलडौल।

कथंघर—(सं. पुं.) दुरी लिरावट।

कथन—(सं. पुं.) पाप, कुचलन, युद्ध, लड़ाई, मरण, दुःख, हिंसा।

कथन—(सं. पुं.) कृत्रिम अन्न, दुरा वन्न, मोटा अनाज।

कथन्यास—(सं. पुं.) दुरा अन्त्यास या अन्न।

कथम—(हि. पुं.) कथं वृक्ष; (अ. पुं.) उग, पन, पाँच, चाल में दोनों पैरों के बीच का फासला; (मुदा.)—उप-डना—पाँच उतड़ना, नाग जाना;—उठाना—पैर उठाना;—चूमना—पाँच छूना;—बड़ाना—तेज चलना।

कथमा—(हि. पुं.) एक प्रकार की मिठाई।

कथर—(अ. स्त्री.) देखें 'कथ'।

कथरई—(हि. स्त्री.) नीमना, कागल्ला।

कथरज—(हि. पुं.) कथर्य, कथन रसना, एक पापी का नाम।

कथरमस—(हि. स्त्री.) कथरीट, कथरी-झगड़ा।

कथरई—(हि. स्त्री.) कथरई।

कथराना—(हि. क्रि. स.) कथराना सेना, करना।

कथरी—(हि. स्त्री.) सेना से प्रसार का एक पक्षी।

कथर्य—(सं. पुं.) कथर्य कथर्य, कथर्य-कथर्य; (सं.) कथर्य।

कथर्य—(सं. पुं.) कथर्य, कथर्य।

कथर्य—(सं. पुं.) कथर्य, कथर्य।

कथर्य—(सं. पुं.) कथर्य, कथर्य।

कथर्य—(सं. पुं.) कथर्य, कथर्य।

कथर्य—(सं. पुं.) कथर्य, कथर्य।

कथर्य—(सं. पुं.) कथर्य, कथर्य।

कथर्य—(सं. पुं.) कथर्य, कथर्य।

कथर्य—(सं. पुं.) कथर्य, कथर्य।

कथर्य—(सं. पुं.) कथर्य, कथर्य।

कदचित-(सं. वि.) दूषित, दुर्ज्ञा किया हुआ, घृणित, विडम्बित।
 कदयं-(सं. वि.) क्षुद्र, कृपण, कंजूस।
 कदयंता-(सं. स्त्री.) क्षुद्रता, बुराई, लोभ, कंजूसी।
 कदयंनाव-(सं. पुं.) अश्लील वार्ता।
 कदलो-(सं. स्त्री.) केला, रंभाफल, एक प्रकार का हिरन।
 कदा-(सं. अव्य.) किस समय, किस वक्त पर।
 कदाकार-(सं. वि.) कुहप, बुरे आकार का।
 कदाच-(हि. अव्य.) कदाचित्, कभी।
 कदाचन-(सं. अव्य.) किसी दिन, एक दिन, एक बार।
 कदाचार-(सं. पुं.) कुत्सित व्यवहार, बुरा चाल-चलन।
 कदाचारी-(सं. वि.) बुरे चाल-चलनवाला।
 कदाचित्-(सं. अव्य.) एक बार, कभी।
 कदापि-(सं. अव्य.) कभी-कभी, जब तब, समय-समय पर।
 कदाहार-(सं. पुं.) बुरा भोजन।
 कदी-(हि. वि.) हठ करनेवाला।
 कदे-(हि. अव्य.) कभी।
 कदहू-(फा. पुं.) एक प्रसिद्ध तरकारी, लोकी।
 कद्रु, कद्रू-(सं. स्त्री.) दागों की माता का नाम।
 कदी-(हि. अव्य.) कभी, किसी समय।
 कदी-कवार-(हि. अव्य.) कभी-कभी, जब-तब।
 कन-(हि. पुं.) कण, बहुत छोटा टुकड़ा, अन्न का दाना, अन्न के दाने का टुकड़ा, मिठा, मीख मांगा हुआ अन्न, जूठन, विन्दु, बूंद, प्रसाद, चावल की धूल, कन्ना, शक्ति, यौगिक शब्दों में 'कन' से 'कर्ण' शब्द का बोध होता है, यथा-कनटोप, कनफटा इत्यादि।
 कनई-(हि. स्त्री.) नई शाखा, कनखा, कोपल, कीचड़, गौली मिट्टी।
 कनडंगली-(हि. स्त्री.) कनिष्ठिका, कानी अँगुली।
 कनक-(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना, टेसू का वृक्ष, धनुरा, नागकेसर, चम्पा का वृक्ष, कचनारकापेड़, पलाश; (हि. पुं.) गेहूँ का आटा, नजर, छप्पय छंद का एक भेद।
 कनक-बलो-(हि. स्त्री.) कान में पहनने का एक आभूषण।
 कनककनिगु-(सं. पुं.) हिरण्यकदम्प, एक देव।
 कनकधार-(सं. पुं.) सीहागा।

कनकचंपा-(सं. पुं.) एक प्रकार का चम्पा का वृक्ष।
 कनकजीर-(हि. पुं.) एक प्रकार का धान।
 कनकजीरा-(हि. पुं.) एक प्रकार का धान।
 कनकटा-(हि. वि.) जिसका कान कटा हो, बूचा, कान काटनेवाला।
 कनकध्वज-(सं. पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 कनकना-(हि. वि.) मंगूर, घीरे से चोट लगने पर टूटनेवाला, कनकनाहट करनेवाला, चुनचुनाहट लानेवाला, असह्य, खाने में बुरा लगनेवाला, असहनशील, चिड़चिड़ा।
 कनकनाना-(हि. क्रि. अ.) चुनचुनाना, मुख का स्वाद विगड़ना, बुरा लगना, भड़कना, चकित होना, रोमाञ्चित होना।
 कनकनाहट-(हि. स्त्री.) कनकनाने की अवस्था, कनकनी।
 कनकपल-(सं. पुं.) सोना तौलने की सोलह माशे की तौल।
 कनकपुरी-(सं. स्त्री.) स्वर्णपुरी, लंका।
 कनकप्रभा-(सं. स्त्री.) बड़ी रतनजोत, तेरह अक्षरों के चार पदों का एक छन्द।
 कनकफल-(सं. पुं.) घतूरे का फल, जमालगोटा, जायफल।
 कनकमय-(सं. वि.) सुवर्ण-निर्मित, सुनहला।
 कनकमृग-(सं. पुं.) सोने का मृग।
 कनकरस-(सं. पुं.) हडताल, गला हुआ सोना।
 कनकबीज-(सं. पुं.) घतूरे का बीज।
 कनकशक्ति-(सं. पुं.) कार्तिकेय।
 कनकस्थली-(सं. स्त्री.) सोने की खान।
 कनका-(हि. पुं.) कण, कनकी।
 कनकाचल-(सं. पुं.) सुमेरु पर्वत, सोने का पर्वत।
 कनकानी-(हि. पुं.) एक जाति का घोड़ा।
 कनकायु-(सं. पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 कनकी-(हि. स्त्री.) छोटा टुकड़ा, चावल का महीन टुकड़ा।
 कनकूत-(हि. पुं.) कृपिफल के दानों का अनुमान।
 कनकैया-(हि. स्त्री.) छोटा कनकीवा, गुड्डी, पतंग।
 कनकौवा-(हि. पुं.) कागज का बड़ा पतंग, बड़ी गुड्डी।
 कनकजुरा-(हि. पुं.) शतपदी, गोजर।
 कनकना-(हि. क्रि. अ.) अप्रसन्न होना।
 कनकिया-(हि. स्त्री.) कनखी, कटाक्ष।
 कनकियाना-(हि. क्रि. स.) कनखी मारना, कटाक्ष करना।

कनखी-(हि. स्त्री.) कटाक्ष, आँख का संकेत, नजर; (मुहा.)-मारना-आँख से संकेत करना।
 कनखैया-(हि. स्त्री.) कनखी, कटाक्ष; (वि.) कटाक्ष करनेवाला।
 कनखोदनी-(हि. स्त्री.) लोहे का एक पतला उपकरण जो कान से मँल निकालने के काम आता है।
 कनगुज-(हि. पुं.) कान का एक रोग।
 कनगुरिया-(हि. स्त्री.) हाथ की सबसे छोटी अँगुली।
 कनछेदन-(हि. पुं.) देखें 'कर्णवेध'।
 कनटोप-(हि. पुं.) दोनों कानों को ढाँपने की बड़ी टोपी।
 कनपट-(हि. पुं.) कान और आँख के बीच का स्थान, कनपटी, थप्पड़।
 कनपटी-(हि. स्त्री.) कान और आँख के बीच का स्थान।
 कनपेड़ा-(हि. पुं.) कान का एक रोग।
 कनफटा-(हि. पुं.) शैव सम्प्रदाय के योगी जो दोनों कानों को फड़वाकर इनमें स्फटिक की मुद्रा पहिनेते हैं, मोरखपंथी।
 कनफूंकवा-(हि. वि. पुं.) कान फूंकनेवाला, मन्त्रोपदेशक।
 कनफूंका-(हि. वि.) मन्त्रोपदेश करनेवाला, दीक्षा देनेवाला; (पुं.) गुरु।
 कनफुसका-(हि. पुं.) धीरे-धीरे बोलनेवाला, निन्दक।
 कनफुसकी-(हि. स्त्री.) कान में धीरे-धीरे बोलना, निन्दा की बात।
 कनफूल-(हि. पुं.) करनफूल, कान का एक गहना।
 कनफेड़(ड़ा)-(हि. पुं.) कान के पास होनेवाली गिलटी।
 कनविधा-(हि. वि.) कान छिदाया हुआ।
 कनमनाना-(हि. क्रि. अ.) सोये हुए प्राणी का धीरे-धीरे सचेत होना और हिलना-डोलना, किसी के विरुद्ध कोई बात करना।
 कनमैलिया-(हि. पुं.) कान का मँल निकालनेवाला।
 कनरश्याम-(हि. पुं.) एक राग विशेष।
 कनरस-(हि. पुं.) संगीत का आनन्द, गाने-बजाने का स्वाद, संगीत सुनने का व्यसन।
 कनरसिया-(हि. पुं.) संगीत-प्रेमी, गाने-बजाने का रसिक।
 कनवई, कनवा-(हि. स्त्री.) एक छटाँक का परिमाण।
 कनवाँसा-(हि. पुं.) दीहित्र का पुत्र, नाती का पुत्र।

कनवास-(अं.पुं.) सन या पटुवे का वना मोटा कपड़ा, टाट ।
 कनवी-(हि.स्त्री.) एक प्रकार की कपास ।
 कनसलाई-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कनखजूरे की आकृति का छोटा कीड़ा ।
 कनसार-(सं. पुं.) ताँबे के पत्र पर खोदकर लेख बनानेवाला ।
 कनसाल-(हिं. पुं.) चारपाई का टेढ़ा छेद जिसके कारण चारपाई कुछ टेढ़ी हो जाती है ।
 कनसुई-(हिं. स्त्री.) खटका, टोह, आहट ।
 कनसुर-(हिं. वि.) मन्द स्वरयुक्त, अध्रसप्त ।
 कनस्तर-(अं.पुं.) टीन का बड़ा आधान ।
 कनहा-(हिं. पुं.) अन्न की उपज का अनुमान करनेवाला ।
 कनहार-(हिं.पुं.) कर्णधार,केवट,मल्लाह ।
 कना-(हिं. पुं.) कन, कण, दाना ।
 कनाई-(हिं.स्त्री.) कोमल शाखा, पतली डाल, टहनी ।
 कनजड़ा-(हिं. पुं.) देखें 'कनोड़ा' ।
 कनागत-(हिं.पुं.) पितृपक्ष, कुवार महीने का कृष्णपक्ष, श्राद्ध ।
 कनार-(हिं. पुं.) घोड़े का एक रोग ।
 कनारी-(हिं.स्त्री.) किनारी, गोंट, मद्रास प्रान्त के कनाड़ा जिले की मापा; (पुं.) इस देश का निवासी ।
 कनाबड़ा-(हिं. वि.) कनोड़ा, कृतज्ञ ।
 कनासी-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की आरा, चोग्रा करने की बड़ी रेती ।
 कनआरी-(हिं.स्त्री.) कनकचंपा का वृक्ष ।
 कनिक-(हिं. पुं.) गेहूँ का मोटा आटा ।
 कनिका-(हिं. स्त्री.) देखें 'कणिका' ।
 कननगर-(हिं. पुं.) अपनी कीर्ति स्थायी रखनेवाला ।
 कनियाना-(हिं.क्रि.अ.) साय छोड़ना,अर्थात् वचाकर भाग जाना, पतंग का एक धोर झुकना, कनो खाना, गोद लेना ।
 कनियार-(हिं. पुं.) देखें 'कणिकार', कनकचम्पा ।
 कनिकर-(सं. पुं.) भारत के एक प्राचीन राजा का नाम ।
 कनिकट-(सं. वि.) बहुत छोटा, अत्यन्त लघु वय का, पीछे से उत्पन्न, वय में कम, निकट; (पुं.) छोटा नाई ।
 कनिकृता-(सं. स्त्री.) अति युवावस्था, अल्पता, छोटाई, कमी ।
 कनिक्या-(सं. स्त्री.) कानी अँगुली, वह नागिका से अपने स्वामी का अल्प प्रेम पाली है; (वि.) निकट, सबसे छोटी ।

कनिकिका-(सं. स्त्री.) सबसे छोटी अँगुली, कानी अँगुली ।
 कनिकार-(हिं. पुं.) कर्णधार ।
 कनी-(हिं. स्त्री.) छोटा टुकड़ा, किनका, हीरे का छोटा कण, चावल का मध्य भाग जो प्रायः कम गलता है, बिन्दु, वृंद; (मुहा.)-खा लेना-हीरे का कण खाकर मर जाना ।
 कनीनक-(सं. पुं.) आँख की पुतली ।
 कनीनिका-(सं. स्त्री.) आँख की पुतली, कन्या, गुडिया, कठपुतली, कानी अँगुली ।
 कनीर-(हिं. पुं.) कनेर ।
 कनु-(हिं. पुं.) कण, दाना, टुकड़ा, शक्ति, बल ।
 कनुका-(हिं. पुं.) अन्न का दाना ।
 कने-(हिं. अर्थ.) निकट, पास, धोर, समीप, अधिकार म ।
 कनेखी-(हिं. स्त्री.) कटाक्ष, कनरी, आँख का इशारा ।
 कनेटा-(हिं. पुं.) कोल्हू में लगी हुई वह लकड़ी जो इसके चारों ओर घूमती है; (वि.) काना, गंगा, घूमती हुई आँखवाला कनेठी-(हिं.स्त्री.) कान उमेठने का दण्ड ।
 कनेर-(हिं. पुं.) सफेद, लाल या पीले फूल का एक छोटे आकार का वृक्ष ।
 कनेरिया-(हिं. वि.) कुछ कालापन लिये हुए लाल रंग का ।
 कनेई-(हिं. पुं.) कान का मैल, खूंट ।
 कनोजा-(हिं. वि.) कटाक्षयुक्त ।
 कनोज-(हिं. पुं.) देखें 'कन्नोज' ।
 कनोजिया-(हिं.वि.) कन्नोज का निवासी, कन्नोज में रहनेवाला; (पुं.) कान्यकुब्ज ब्राह्मण ।
 कनोठा-(हिं. पुं.) कोण, कोना; (वि.) कनिकट, छोटा ।
 कनोड़ा-(हिं. वि.) काना, कलंकित, अपंग, निन्दित, लज्जित, मोल लिया हुआ (दास), कृतज्ञ (मनुष्य) ।
 कनोती-(हिं. स्त्री.) पशुओं के दोनों कानों का छोर, कान हिलाने का डंग, कान में पहिनन को छोटी शाली ।
 कना-(हिं.पुं.) पतंग की धोरी का वह भाग जो इसके दोनों में बंधा होता है, किनारा, चापल की कनी, पीसों का एक रोग ।
 कनी-(हिं. स्त्री.) पतंग को मीची रखने के लिये इसके एक ओर बाँधी हुई बन्नी, चाकगीरों की बन्नी; (मुहा.)-काटना-कनल से निकल जाना; -काना-पतंग का उड़ान में झुक और झुकना; -काना-पतंग में रचना ।

कन्नोज-(पुं.) एक इतिहास-प्रसिद्ध आधुनिक नगर जो फर्रुखाबाद जिले में स्थित है ।
 कन्यका-(सं. स्त्री.) कुमारी कन्या, लड़की, बिना व्याही हुई पुत्री, तन्ना-नुसार-कुमारी, विमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, गाम्भवी, दुर्गा, चंडिका और सुन्दरी-नव कन्यकाएँ हैं ।
 कन्या-(सं. स्त्री.) दस वर्ष की लड़की, अविवाहिता स्त्री, पुत्री, बेटा, घृतकुमारी, बड़ी इलायची, मेपादि के अन्तर्गत छोटी राशि, चार अक्षरों का छन्द, पुराणों के अनुसार अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा और मंदोदरी पंचकन्या कहलाती हैं ।
 कन्याकुमारी-(सं. स्त्री.) कुमारिका अंतरीप, यह भारतवर्ष के दक्षिण राभि-श्वर तीर्थ के समीप है, दुर्गादेवी ।
 कन्याग्रहण-(सं. पुं.) विवाह, नादी ।
 कन्यादाता-(सं. पुं.) कन्यादान करनेवाला व्यक्ति ।
 कन्यादान-(सं. पुं.) हिन्दुओं में वर को विवाह के समय कन्या को दान देने की रीति ।
 कन्याधन-(सं.पुं.) अविवाहिता स्त्री का स्वीयधन, दहेज ।
 कन्यापति-(सं.पुं.) जाभाता, दामाद ।
 कन्यारत्न-(सं. पुं.) असाधारण रूप धार गुण की कन्या ।
 कन्यारशि-(हिं. वि.) जिनके जन्म के समय कन्या राशि का चन्द्रमा हो, निर्वंश, क्षुद्र, नपुंसक ।
 कन्यिका-(सं. स्त्री.) कन्या ।
 कन्याई-(हिं. पुं.) श्रीकृष्ण, कनैया, बड़ा सुन्दर लड़का ।
 कन्यापर-(हिं. पुं.) झुट्टे का वह भाग जो कन्ये पर डाला जाता है ।
 कन्याप-(हिं. पुं.) श्रीकृष्ण, प्रिय कनिका, सुन्दर बालक ।
 कपट-(सं.पुं.) मिथ्या वाक्य, धोखा, छद्म ।
 कपटचारी-(सं.वि.) धोखा, धोखेवाला ।
 कपटता-(सं. स्त्री.) कपट वाक्यार ।
 कपटचारी-(सं. वि.) कपटवादी ।
 कपटता-(हिं.वि.सं.) धोखा, धोखता, काठकार अथवा कपटा, कपटता ।
 कपट-प्रबंध-(सं.पुं.) छद्म का धोखा या धोखा, धोखे ।
 कपट-नेत्र-(सं. पुं.) झूठ दिखाने वाला ।
 कपटधेनु-(सं. पुं.) धोखेवाला, कपटवादी, कपटवादी का धोखा; (वि.) कपट, कपटवादी, झूठ, धोखा, धोखे ।

कपटा—(हिं. पुं.) धान को नष्ट करने-
वाला एक प्रकार का कीड़ा।
कपटी—(सं. वि.) बंचक, छली।
कपड़—(हिं.पुं.) 'कपड़ा' का संयुक्त पद में
व्यवहृत रूप; -कोट—(पुं.) खिमा, तंबू;
-छान—(पुं.) किसी वृष को कपड़े से
छानने का काम; -द्वार—(पुं.) कपड़ा
रखने का भंडार; -बलि—(स्त्री.)
एक प्रकार का महीन रेशमी वस्त्र;
-मिट्टी—(स्त्री.) कपड़ौटी, किसी
वातु या अन्य औषधि को फूंकने के लिये
संपुट के चारों ओर मिट्टी चिपकाकर
कपड़ा लपेटने की विधि; -द्विद्वार—(पुं.)
फटे कपड़ों की मरम्मत करनेवाला।
कपड़ा—(हिं. पुं.) रुई, ऊन, रेशम या
सन का बना हुआ वस्त्र, पोशाक,
पहिनने का वस्त्र; -लत्ता—(पुं.)
पहिनने के वस्त्र; (मुहा.) -उतार लेना—
सब कुछ छीन लेना; कपड़ों से होना—
स्त्री का रजस्वला होना।
कपड़ौटी, कपरोटी—(हिं. स्त्री.) देखें
'कपड़मिट्टी'।
कपदं, कपदक—(सं. पुं.) शिव का जटा-
जूट, कीड़ी।
कपर्दी, कपर्दि, कपर्दिका—(सं. स्त्री.) कीड़ी।
कपर्दिनी—(सं. स्त्री.) जटाधारिणी दुर्गा।
कपर्दी—(सं. पुं.) ग्यारह रुद्रों में एक, शिव।
कपसा—(हिं. स्त्री.) चिकनी गीली मिट्टी।
कपाट—(सं. पुं.) किवाड़, द्वार; -बद्ध—
(सं. पुं.) चित्र काव्य के अन्तर्गत छन्द
विशेष जिसके अक्षरों के लिखने पर कपाट
के समान चित्र बन जाता है; -संधि—
(स्त्री.) दरवाजे में पल्लों का जोड़।
कपार—(हिं. पुं.) देखें 'कपाल'।
कपाल—(सं. पुं.) खोपड़ी की हड्डी,
मस्तक, माया, अदृष्ट, खप्पर, घड़े
का टुकड़ा, निवा-पात्र, मिट्टी का पात्र,
वह पात्र जिसमें यज्ञ का पुरोडास
पकाया जाता है, समूह, डेर, आवरण,
ढपना; -रु—(हिं.पुं.) देखें 'कापालिक';
-क्रिया—(स्त्री.) जलते समय शव की
खोपड़ी फोड़ने का कार्य; -मालिका—
(स्त्री.) खोपड़ी, काली; -मालिनी—
(स्त्री.) दुर्गा; -माली—(पुं.) शिव,
महादेव।
कपालि—(सं. पुं.) शिव, महादेव।
कपालिज—(सं. स्त्री.) कर्पट, कपड़ा।
कपालिनी—(सं. स्त्री.) दुर्गा।
कपाली—(सं. पुं.) भैरव, शिव, महादेव,
हठयोग की एक त्रिया जो माथे के बल

पैर ऊपर करके की जाती है, एक वर्ण-
संकर जाति।
कपास—(हिं. स्त्री.) कर्पास, रुई।
कपासी—(हिं. वि.) कपास के फूल के
रंग का, हलके पीले रंग का।
कर्पिजल—(सं. पुं.) चातक, पपीहा,
तीतर, एक मुनि का नाम; (वि.)
पीले रंग का, पीत।
कपि—(सं. पुं.) बन्दर, हाथी, सूर्य,
वाराह, करंज, आमड़ा, शिलारस,
भूरे रंग का घुप।
कर्पिका—(सं. पुं.) मदार का पौधा।
कपिकेतन, कपिकेतु—(सं. पुं.) अर्जुन का
नाम।
कपित्य—(सं. पुं.) कैंथ का वृक्ष या फल।
कपिध्वज—(सं. पुं.) अर्जुन।
कपिप्रभा—(सं. स्त्री.) केवाँच, अपामार्ग,
चिचिड़ा।
कपिप्रभु—(सं. पुं.) रामचन्द्र, बालि, सुग्रीव।
कपिप्रिय—(सं. वि.) आमड़ा, कैंथ।
कपिरोमा—(सं. स्त्री.) केवाँच, रेणुका।
कपिल—(सं. वि.) भूरा, तामड़ा, मट-
मैला; (पुं.) अग्नि, भूरा रंग, कुत्ता,
विष्णु, महादेव, सूर्य, शिलाजीत, चूहा,
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक ऋषि।
कपिलच्छाया—(सं. स्त्री.) मृगनाभि,
कस्तूरी।
कपिलता—(सं. स्त्री.) केवाँच, भूरापन,
पीलापन।
कपिलवस्तु—(सं. पुं.) प्राचीन शाक्य
राजाओं की राजधानी, गीतम बुद्ध का
जन्म-स्थान।
कपिला—(सं. स्त्री.) शुभ्र वर्ण की गाय,
दक्षकन्या, पुण्डरीक नामक दिग्गज की
पत्नी, कामधेनु, मध्य प्रदेश की एक
नदी का नाम, श्यामलता; (वि. स्त्री.)
भूरे रंग की, मटमैली।
कपिलाक्षी—(सं. स्त्री.) सफेद हरिन।
कपिलिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की
चौंटी।
कपिल्ली—(सं. स्त्री.) गजपिप्पली,
कैंथ का वृक्ष।
कपिल्ल—(सं. पुं.) मटमैला रंग, लोह-
वान, शिव; (वि.) मटमैला, भूरे रंग का।
कपिस—(हिं. पुं.) रेशमी वस्त्र।
कपी—(हिं. स्त्री.) धिरनी, चरखी, रस्सी
लपेटने की गड़ारी।
कपीक्ष—(सं. पुं.) हनुमान्, कपींद्र, बालि,
सुग्रीव, विष्णु।
कपीशा, कपिशा—(सं. स्त्री.) मुरा, चमेली,

एक नदी का नाम, कसाई, पिशाचों की
माता जो कश्यप की पत्नी थी।
कपूत—(हिं.पुं.) कुपुत्र, बुरे आचरण का पुत्र।
कपूती—(हिं. स्त्री.) पुत्र का बुरा आचरण।
कपूर—(सं. पुं.) एक सफेद रंग का सुगं-
धित द्रव्य जो हवा लगने से उड़ जाता है।
कपूरकचरी—(हिं. स्त्री.) एक सुगंधित लता
की जड़ जो औषधि में प्रयुक्त होती है।
कपूरकाट—(हिं. पुं.) एक प्रकार का
सुगंधित धान।
कपूरा—(हिं. पुं.) भेड़, बकरे आदि का
अण्डकोष।
कपूरी—(हिं. वि.) कपूर के रंग का, हलके
पीले रंग का, कपूर का बना हुआ;
(पुं.) हलका पीला रंग, एक प्रकार का
काड़ु का पान।
कपोत—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, कवूतर,
घुग्घू, एक प्रकार का चूहा, पारा,
सज्जीखार, भूरा रंग; -क—(पुं.)
भूरा सुरमा, छोटी जाति का कवूतर,
हाथ जोड़ने की एक रीति; -पालिका—
(स्त्री.) कवूतर का दरवा; -वृत्ति—
(स्त्री.) सञ्चय-शून्य जीविका; -व्रत—
(वि.) दूसरे के अत्याचारों को चुपचाप
सहन करनेवाला; (पुं.) मीन व्रत;
-सार—(पुं.) स्त्रीतोञ्जन, सुरमा।
कपोती—(सं. स्त्री.) कवूतरी, पेड़ुकी;
(वि.) कवूतर के समान, भूरे रंग का।
कपोतेश्वरी—(सं. स्त्री.) पावती, दुर्गा।
कपोल—(सं. पुं.) गण्डस्थल, गाल;
-कल्पना—(स्त्री.) अमूलक कल्पना,
मनगढ़त, झूठी बात; -कल्पित—
(वि.) असत्य, झूठ, बनावटी; -गेंदुवा—
(हिं. पुं.) गाल तकिया, गाल के नीचे
रखन का तकिया।
कप्तान—(अं. पुं.) जल या स्थल सेना का
उच्च अधिकारी, पुलिस विभाग का
क्षेत्रीय या जिला अधिकारी।
कप्तानी—(हिं. स्त्री.) अध्यक्षता, सरदारी।
कप्पर—(हिं. पुं.) कर्पट, कपड़ा।
कप्फा—(हिं.पुं.) अफीम का अर्क या पसेत्र।
कफ्यास—(सं. पुं.) बन्दर की गुदा का
स्थान; (वि.) सूर्य द्वारा उगाया हुआ।
कफ—(सं. पुं.) बलगम, श्लेष्मा, शरीर के
भीतर की एक घातु; -कर, -कारक—
(वि.) कफ पैदा करनेवाला; -क्षय—
(पुं.) यक्ष्मा, क्षयरोग; -गुल्म—(पुं.)
पेट का एक रोग; -घ्न, -हर्—(वि.)
कफ का नाश करनेवाला; -ज्वर—
(पुं.) कफ-विकार से उत्पन्न ज्वर

कफ-(अं.पुं.) कमीज के आस्तीन का छोर जिसमें बटन लगता है।
 कफन-(अ.पुं.) मुर्दे को ओढ़ाया जाने-वाला कपड़ा; (मुहा.)-को कौड़ी न होना या वचना-कुछ भी न वचाना या वचा पाना, अकिंचन होना।
 कफनखसोट-(हिं.वि.) शव पर डाले हुए वस्त्र में से टुकड़ा फाड़नेवाला, छुपण, कंजस, दरिद्र का घन हरनेवाला।
 कफनखसोटी-(हिं.स्त्री.) डोम का कर जो वे श्मशान में शव पर डाले हुए वस्त्र में से थोड़ा अंश फाड़ लेते हैं, अयोग्य रीति से दरिद्र का घन हरण करना, छुपणता, कंजूसी।
 कफानचोर-(हिं.पुं.) क्षुद्र द्रव्य चुरानेवाला।
 कफनाना-(हिं.क्रि.स.) गाड़ने या जलाने के लिये शव को कपड़ा ओढ़ाना।
 कफनी-(हिं.स्त्री.) शव के गले में डालने का वस्त्र, साधु के पहिने का बिना सिला हुआ वस्त्र जिसमें गला डालने के लिये एक छिद्र होता है।
 कफिन्ना-(हिं.पुं.) जहाज के शहतीर में जोड़ने का लोहा, तस्ता आदि।
 कवंध-(सं.पुं.) जल, पानी, उदर, पेट, राहु, मेघ, बादल, बिना मस्तक का घड़, एक राक्षस का नाम, एक गन्धर्व का नाम, लकड़ी का बड़ा पीपा।
 कव-(हिं.अव्य.) किस समय, किस वक्त; (मुहा.)-का-देर या विलम्ब से; -नहीं-सर्वदा, हमेशा।
 कवड्डी-(हिं.स्त्री.) बालकों का एक रोल जिसमें वे दो दल बनाकर खेलते हैं, कौपा, कौपा।
 कवदर-(हिं.पुं.) देखें 'कव्र'।
 कवदरा-(हिं.वि.) कवूर, श्वेत वर्ण पर कालि, लाल, पीले या दूसरे रंग के घबरे।
 कवदरिस्तान-(हिं.पुं.) देखें 'कव्रिस्तान'।
 कवदरी-(हिं.स्त्री.) वेणी, चोटी।
 कवदाड़-(हिं.पुं.) निरर्थक पदार्थ, कूड़ा-कारकट, निरर्थक कार्य, तुच्छ व्यवसाय।
 कवदाड़ा-(हिं.पुं.) निरर्थक व्यापार, धमड़ा-सोटा।
 कवदाड़ा, कवदाड़ी-(हिं.पुं.) टूटी-फूटी वस्तुएँ बेचनेवाला, तुच्छ व्यवसाय करने-वाला, धमड़ा, मनुष्य; (वि.) नीच।
 कवदार-(फा.पुं.) कुटे या बारीक पिसे हुएमांस की गोली या टिकिया जो आंग पर लाल होती गई हो।
 कवदायमी-(हिं.स्त्री.) शीतलचीनी, मिर्च की जाति की एक रत्ता।

कवार-(हिं.पुं.) छोटा व्यवसाय या काम-काज, देखें 'कवाड़'।
 कवारना-(हिं.क्रि.स.) उखाड़ना, नोचना।
 कवाल-(हिं.स्त्री.) खजूर का रेशा जिसकी रस्ती बनती है।
 कवाला-(अ.पुं.) अचल संपत्ति का हस्तांतरण या विक्रय लेख्य या दरता-वेज, वयनामा; कवालदार-(पुं.) कवाला लेनेवाला; (मुहा.)-करना या लिखना-अचल संपत्ति को कानूनी निर्व-धन के नियमों के अनुसार बेचना।
 कवाहट-(हिं.स्त्री.) तरद्दुद, अड़चन, बुराई, कठिनाता।
 कवित्य-(हिं.पुं.) कैय का फल।
 कवीर-(अ.वि.) प्रतिष्ठित; (पुं.) एक प्रसिद्ध भक्त का नाम जो पहिले जुलाहे थे; (हिं.पुं.) अश्लील गीत जो होली के अवसर पर गाया जाता है।
 कवीरपंथी-(हिं.पुं.) कवीर के सम्प्रदाय का अनुयायी।
 कवीला-(अ.स्त्री.) पत्नी, जोरु; (हिं.पुं.) एक छोटा वृक्ष, यह दवा के उपयोग में आता है।
 कवुलवाना, कवुलाना-(हिं.क्रि.स.) स्वीकार करवाना, कबूल करवाना।
 कवूतर-(हिं.पुं.) एक प्रसिद्ध पक्षी जो जंगली और पालतू दोनों होते हैं; -खाना-(पुं.) कवूतरों के रहने का दरवा; (मुहा.)-की तरह लोटना-तड़पना या छटपटाना।
 कवूतरी-(हिं.स्त्री.) मादा कवूतर।
 कबूल-(अ.पुं.) मानना, स्वीकृति।
 कवज-(अ.पुं.) अवरोध, मलबद्धता; (क्रि.प्र.)-करना-कोष्ठबद्धता होना।
 कवजा-(अ.पुं.) दराल, अधिकार, काबू, वश, लोहे या पीतल का उपकरण जिससे दरवाजे आदि जोड़ने पर वे धूम सकते हैं।
 कवजादार-(अ.पुं.) कवजा या दराल रखनेवाला।
 कवजियत-(हिं.स्त्री.) देखें 'कवज'।
 कव्र-(अ.स्त्री.) मुर्दा गाड़ने का गड्ढा या समाधि; (मुहा.)-अपनी कव्र सोवना-अपने सर्वनाश का उपाग करना; -ने उठकर आना-मौत के मुग से बचकर आना।
 कव्रिस्तान-(अ.पुं.) बटू स्थान जहाँ मुर्दे गाड़े जायें।
 कवमी-(हिं.अव्य.) किसी समय; (मुहा.)-कवमी-(अव्य.) नया-नया, आभरवारी; -का-कब का, कबूत मगय करने से; -न कवमी-किसी वस्तुओं अन्तर पर, नया-नया।

कमू-(हिं.अव्य.) देखें 'कमी'।
 कमंचा-(हिं.पुं.) बट्टियों का कमान के आकार का एक औजार।
 कमंडल-(हिं.पुं.) देखें 'कामंडलु'।
 कमंडली-(हिं.वि.) कामंडलवारी।
 कमंडलु-(सं.पुं.) साधुओं का धातु या तृची आदि का बना पात्र; -घर-(पुं.) शिव, साधु, संन्यासी।
 कम-(फा.वि.) थोड़ा, अल्प, छोटा, बुरा; -अकल-(वि.) अल्प-बुद्धि; -उग्र-(वि.) थोड़ी उग्रता; -कामत-(वि.) अल्प मूल्य का, सस्ता; -तर्च-(वि.) किफायतसार, मितव्ययी; -सुराक-(वि.) कम जानेवाला; -से कम-(अव्य.) थोड़ा बहुत, अल्पतम।
 कमकत-(हिं.वि.) कामचोर।
 कमचा-(हिं.पुं.) छोटी कमान, सारंगी, लोहे की कमान, चंद्राकार छत, लचीली पतली डाल।
 कमची-(हिं.स्त्री.) बांस की पतली डाल, पतली छड़ी, तोली।
 कमच्छा-(हिं.पुं.) देखें 'कामाच्छा'।
 कमजोर-(फा.पि.) कम ताकत या शक्तिवाला, दुर्बल।
 कमजोरी-(फा.स्त्री.) दुर्बलता।
 कमठ-(सं.पुं.) कच्छुआ, दाम, तुंची या नारियल का पात्र, एक प्रकार का बाजा।
 कमठी-(सं.स्त्री.) कच्छुई, बांस की पतली पट्टी।
 कमती-(हिं.वि.) कम, अल्प; (स्त्री.) कमी, अल्पता।
 कमना-(हिं.क्रि.अ.) कम होना, घटना।
 कमनी-(हिं.वि.) कमनीय।
 कमनीय-(सं.वि.) कामना या इच्छा करनेवाला, चाहने योग्य, मनोहर, रुचिर, मुन्दर, प्रिय।
 कमनीयता-(सं.स्त्री.) मोन्दर्य।
 कमनैत-(हिं.पुं.) धनुषारी, कमान बांधनेवाला।
 कमनैती-(हिं.स्त्री.) धनुषिया, तीर-कमान की रत्ता।
 कमर-(फा.स्त्री.) पेट और पैर के बीच का भाग, कटि, मांस भाग, कुम्भी का एक भाग, -कम-कम-(पुं.) कमर में कमरने का एक प्रकार, कमरती।
 कमरकोट, कमरकोठा-(हिं.पुं.) कट के बागे और कती में केशीयत कीट (मिथान) जिसमें कबूत कमानों के किले के रूप में हैं, प्रसार, रत्ता की रत्ता की रत्ता भीड़।

कमरख—(हि. पुं.) एक वृक्ष जिसके फाँक-वाले लंबे-लंबे फल होते हैं जो खाने में चट्टे होते हैं, इसका फल ।

कमरखी—(हि. वि.) कमरख के समान फाँकदार; (स्त्री.) फाँकदार कटाव ।

कमरखूटा—(हि. वि.) ढीली कमरवाला, कुबड़ा, नपुंसक ।

कमरखेगा—(हि. पुं.) मल्ल-युद्ध की एक युक्ति या पंच ।

कमरखट्टी—(हि. स्त्री.) कटिवन्ध, कमर पर बाँधने की फट्टी ।

कमरखेटा—(हिं. पुं.) मलखंभ का एक व्यायाम या कसरत ।

कमरखल्ला—(हिं. पुं.) खपड़े की छाजन की वह लकड़ी जो लम्बे बल बँडेर के नीचे रखी जाती है ।

कमरा—(हिं. पुं.) कोण्ड, कोठा, कोठरी ।

कमरिया—(हिं. स्त्री.) छोटा कम्बल, कटि, कमर, दीना हाथी; (पुं.) घोड़े का एक रोग ।

कमरी—(हिं. स्त्री.) छोटा कम्बल ।

कमल—(सं. पुं.) पद्म, पानी में होने वाला सुन्दर फूल का एक पीया, इस पीये का फूल, जल, ताँवा, बल्लोम, पेट में का कमल के आकार का मांस-पिंड, एक प्रकार का हिरन, सारस पक्षी, आकाश, ब्रह्मा, मूत्राशय, रोरी, कुंकुम, एक प्रकार का मात्रिक छन्द, आंस का ढेला, गर्भाशय का अग्रभाग, मोमवत्ती जलाने का गिलास, काँवला रोग, पांडू रोग ।

कमलकंद—(सं. पुं.) कमल की जड़ ।

कमलगट्टा—(हिं. पुं.) पद्मबीज, कमल का बीज ।

कमलज—(सं. पुं.) ब्रह्मा ।

कमलजयन्त—(सं. वि.) कमल की पँखुड़ी के सदृश सुन्दर नेत्रवाला; (पुं.) विष्णु, रामचन्द्र, कृष्ण ।

कमलनाभ—(सं. पुं.) विष्णु ।

कमलनाल—(सं. पुं.) मृणाल, कमल की डंडी ।

कमलबंध—(सं. पुं.) एक प्रकार का चित्रकाव्य जिसके अक्षरों को नियम-पूर्वक लिखाने से कमल का चित्र बन जाता है ।

कमलबंधु—(सं. पुं.) सूर्य ।

कमलबाई—(हिं. स्त्री.) एक रोग जिसमें धरिरे पीला पड़ जाता है ।

कमलबीज—(सं. पुं.) कामल-गट्टा ।

कमलभव—(सं. पुं.) कमलज, ब्रह्मा ।

कमलभू—(सं. पुं.) ब्रह्मा ।

कमलयोनि—(सं. पुं.) ब्रह्मा ।

कमला—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी, सुन्दर स्त्री, नारंगी, गंगा, नाचनेवाली रंडी, एक प्रकार का छन्द, उत्तर बिहार की एक नदी; (हिं. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा जिसके काटने से खुजली होती है, ढोला, झाँझ ।

कमलाकर—(सं. पुं.) पद्म-समूह ।

कमलाकांत—(सं. पुं.) लक्ष्मीपति, विष्णु ।

कमलाकार—(सं. वि.) कमल के आकार का; (पुं.) छुप्य का एक भेद ।

कमलाक्ष—(सं. वि.) पद्म के समान सुन्दर नेत्रवाला; (पुं.) कमलगट्टा, पद्मबीज ।

कमलाग्रजा—(सं. स्त्री.) हरिद्रा, हलदी ।

कमलापति—(सं. पुं.) लक्ष्मी के पति, विष्णु ।

कमलालया—(सं. स्त्री.) कमल में रहने-वाली लक्ष्मी ।

कमलावती—(सं. स्त्री.) पद्मावती छन्द ।

कमलासन—(सं. पुं.) ब्रह्मा, हठ योग का पद्मासन ।

कमलिनी—(सं. स्त्री.) छोटा कमल, कोई-छोटा कम्बल, कमरी ।

कमली—(सं. पुं.) ब्रह्मा; (हिं. स्त्री.) छोटा कम्बल, कमरी ।

कमलेश—(सं. पुं.) विष्णु ।

कमवानी—(हिं. क्रि.स.) दूसरे से कमाने का काम कराना, लाम करवाना, बाल बत-वाना, सुबरवाना ।

कमसमझी—(हिं. स्त्री.) मूर्खता ।

कमहा—(हिं. वि.) काम करनेवाला, श्रमी ।

कमाइच्च—(हिं. स्त्री.) सारंगी वजाने की कमान्ती ।

कमाई—(हिं. स्त्री.) कमाया हुआ धन, कमाने का काम, उद्यम, व्यवसाय, काम-बंधा ।

कमाऊ—(सं. वि.) कमानेवाला, धनो-पार्जन करनेवाला ।

कमाच—(हिं. पुं.) एक प्रकार का रेजमी वस्त्र ।

कमाची—(हिं. स्त्री.) कमान की तरह झुकी हुई तीली ।

कमाना—(हिं. क्रि.स.) उपार्जन करना, परि-श्रम करना, अभ्यास बढ़ाना, सुधारना, खाद से भरना, मल-मूत्र उठाना, बोन के लिये भूमि तैयार करना, छिनारा करके पेट भरना, परिश्रम करना, बाल मूड़ना, अभ्यास बढ़ाना, कम करना, घटाना ।

कमानियाँ—(हिं. पुं.) वनप चलानेवाला; (वि.) अर्थ-चंद्राकार ।

कमान्ती—(फा. स्त्री.) कोई लचीली वस्तु, लोहे की लकड़नेवाली तीली, मेसला जो आँत उतरनेवाले कमर में कसते हैं, धनुषाकार लकड़ी, बाँस की फट्टी;

कमान्ती—(फा. स्त्री.) कोई लचीली वस्तु, लोहे की लकड़नेवाली तीली, मेसला जो आँत उतरनेवाले कमर में कसते हैं, धनुषाकार लकड़ी, बाँस की फट्टी;

कमान्ती—(फा. स्त्री.) कोई लचीली वस्तु, लोहे की लकड़नेवाली तीली, मेसला जो आँत उतरनेवाले कमर में कसते हैं, धनुषाकार लकड़ी, बाँस की फट्टी;

—बालकमान्ती—(स्त्री.) जेवी घड़ी की बाल के समान महीन कमान्ती; —दार—(वि.) कमान्ती लगा हुआ ।

कमायज—(हिं. स्त्री.) सारंगी वजाने की कमान्ती ।

कमाल—(अ. पुं.) पूर्णता, पराकाष्ठा, चमत्कारपूर्ण कार्य, निपुणता, कुशलता; (वि.) बहुत सुन्दर, सर्वोत्तम; (मुहा.)

—करना—अद्भुत योग्यता, सफलता आदि प्राप्त करना ।

कमासुत—(हिं. वि.) धन कमानेवाला, उद्यमी ।

कमी—(हिं. स्त्री.) अल्पता, न्यूनता, चूटि, घाटा; —बेशी—(स्त्री.) कम या ज्यादा होना, अल्पता-अधिकता ।

कमीज—(हिं. स्त्री.) कफ और कालर-दार पहनावा ।

कमीन—(फा. वि.) देखें 'कमीना'; —पन—(पुं.) कमीनापन ।

कमीना—(फा. वि.) नीच, क्षुद्र, खोटा; —पन—(पुं.) नीचता, दुष्टता ।

कमीला—(हिं. पुं.) देखें 'कबीला' ।

कमुआ—(हिं. पुं.) नाव चलाने के डौड़े की मूठ ।

कमेरा—(हिं. पुं.) कमकार, खेत में काम करनेवाला ।

कमेला—(हिं. पुं.) पशुओं का बंध करने का स्थान ।

कमेहरा—(हिं. पुं.) कसकट की चूड़ियाँ ढालने का साँचा ।

कमुदिन—(हिं. स्त्री.) कुमुदिनी ।

कमोदिक—(हिं. पुं.) कामोद राग गाने-वाला, गवैया ।

कमोदिन—(हिं. स्त्री.) कुमुदिनी ।

कमोरा—(हिं. पुं.) चौड़े मुँह का मिट्टी का घड़ा, कछरा ।

कमोरी—(हिं. स्त्री.) छोटा कमोरा, कछरी ।

कम्मल—(हिं. पुं.) कंबल ।

कम्मा—(हिं. पुं.) ताड़-पत्र पर लिखा हुआ लेख ।

कम्प—(हिं. वि.) इच्छुक, कामुक ।

कपपूती—(हिं. स्त्री.) एक वृक्ष, इसके पत्तों में से सुगंधित तेल निकलता है ।

कया—(हिं. स्त्री.) देखें 'काया' ।

कयामत—(अ. स्त्री.) इस्लाम तथा ईसाई धर्मानुसार मनुष्य द्वारा किये गये पाप-पुण्य के निर्णय का अंतिम दिन, प्रलय, हंगामा; (मुहा.)—की घड़ी-प्रलयकाल, महान् संकट का समय ।

करंक—(हिं. पुं.) अस्थिपंजर, ठठरी ।

करंगा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का धान ।

करंज—(हि. पुं.) एक वृक्ष ।
करंजा—(हि. पुं.) कंजा; (वि.) नूरी आंखवाला ।
करंजुवा—(हि. पुं.) करंज का वृक्ष, कंजा, जब के पीवे को नष्ट करनेवाला एक रोग; (वि.) मूरी आंखवाला ।
करंड—(हि. पुं.) एक प्रकार का बहुत कड़ा पत्थर (कुरुल) जिसपर सान चढ़ाया जाता है, पिटारा, कोप ।
करंडी—(हि. स्त्री.) कच्चे रेशम की चादर, अंडी ।
कर—(सं. पुं.) हाथ, हाथी की सूंड, ओला, प्रत्यय, विषय, काम, महसूल, माल-गुजारी, छल, युक्ति, चौबीस अंगुल की नाप; (विभ.) संबंध कारक का चिह्न; (हि. प्रत्य.) प्रत्यय की तरह शब्द में प्रयुक्त होने से इसका अर्थ "करनेवाला" होता है, यथा—कष्टकर, सुखकर इत्यादि ।
करदत्त—(हि. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा, एक प्रकार का सर्प ।
करई—(हि. स्त्री.) जल रखने का टोंटी-दार पात्र ।
करकंटक—(सं. पुं.) नख ।
करक—(सं. पुं.) कमण्डल, करवा, करंज का वृक्ष, मौलसिरी, कचनार, नारियल की खोपड़ी, गोबर पर उगनेवाला छत्रक, बनार, ओला, करक, ठठरी ।
करक—(हि. स्त्री.) देखें 'कड़क' ।
करकाच—(सं. पुं.) समुद्र से निकाला हुआ नमक; (हि. पुं.) उपद्रव ।
करकट—(हि. पुं.) असार वस्तु, कूड़ा-कातदार, झाड़न ।
करकटिया—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की लंबी पूँछ की चिड़िया ।
करकना—(हि. क्रि. अ.) चटचटाना, फूटना, पीड़ा होना, करकना ।
करकामल—(सं. पुं.) कमल की मांति सुन्दर हाथ ।
करकार—(हि. पुं.) समुद्र से निकाला हुआ नमक; (वि.) गड़नेवाला ।
करकरा—(हि. वि.) तुरसुरा, गड़ने-वाला, कठोर ।
करकराहट—(हि. स्त्री.) कड़ापन, कठोरता, गुस्सा, कट्ट, पीड़ा ।
करकल—(हि. वि.) कलंसा, कड़ा ।
करकल चतुर्था—(सं. स्त्री.) कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, करवा चौथ, इस दिन सिन्धवां दत्त रातनी है ।
करकायु—(सं. पुं.) पृथराष्ट्र के एक पृथक नाम ।

करखना—(हि. क्रि. अ.) उत्तेजित होना ।
करखा—(हि. पुं.) युद्ध-संगीत, एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक पाद में सत्तास मात्राएँ होती हैं, उत्तेजना, कलक, काजल ।
करगता—(हि. स्त्री.) सोनियाचाँदीकीकरवनी
करगस—(हि. पुं.) तीर ।
करगह—(हि. पुं.) वह नीचा स्थान जहाँ पर लटकाकर जुलाहे कपड़ा बुनते हैं, जुलाहों का करघा, कपड़ा बुनने का यन्त्र ।
करगहना—(हि. पुं.) पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा जिसकी द्वार या खिड़की के चौखट पर रखकर जोड़ाई करते हैं, मरेठा ।
करगही—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का अगहनिया मोटा घान ।
करगी—(हि. स्त्री.) चीनी बटोरने की खुरचनी ।
करग्रह—(सं. पुं.) विवाह, पाणि-ग्रहण ।
करग्रह—(सं. पुं.) कर लेनेवाला राजा ।
करघा—(हि. पुं.) देखें 'करगह' ।
करचंग—(हि. पुं.) एक प्रकार का छोटा डफ ।
करछा—(हि. पुं.) बड़ी करछी ।
करछाल—(हि. स्त्री.) उछाल, छलांग, कूद-फाँद ।
करछी, करछुल—(हि. स्त्री.) देखें 'कलछी' ।
करछुला—(हि. पुं.) बड़ी कलछुल ।
करछुली—(हि. स्त्री.) छोटी कलछुल ।
करछियाँ—(हि. स्त्री.) कुछ काली गौ ।
करछीह—(हि. वि.) थोड़ा काला (रंग) ।
करज—(सं. पुं.) नख, अँगुली, व्याघ्रनख नामक सुगन्धित द्रव्य; (वि.) हाथ से उत्पन्न ।
करट—(सं. पुं.) कौवा, हाथी की कनपटी, दुष्ट मनुष्य, एकादशाह श्राद्ध, कट्टर नास्तिक, कौवा ।
करटक—(सं. पुं.) कौवा, चौर-शास्त्र के प्रवर्तक कर्णों के पुत्र ।
करटा—(सं. स्त्री.) दूध दुहाने में छटकने-वाली नाय, हाथी की कनपटी ।
करटिनी—(सं. स्त्री.) हस्तिनी, हथिनी ।
करटी—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी ।
करण—(सं. पुं.) व्याकरण में वह कारक जिसके द्वारा कर्ता क्रिया को सिद्ध करता है, तृतीया विभक्ति, इन्द्रिय, शरीर, साधन, कार्य, मित्र, एक प्रकार का नाय, स्थान, दैतना, ज्योतिष के गणित की एक क्रिया, योगियों का ध्यान, गणित में वह संख्या जिसका वर्गमूल पूरा-पूरा न निकल सके; गणित में अति सूक्ष्म संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता या सरता; -स्व-(पुं.) मापनल ।

करपीय—(सं. वि.) करने योग्य ।
करतत्र—(हि. पुं.) कर्तव्य, काम, कला, जाड़, चालाकी ।
करतदिया, करतदी—(हि. वि.) करतव्य करनेवाला, निपुण, गुणी ।
करतरी—(हि. स्त्री.) देखें 'कररी' ।
करतल—(हि. पुं.) हथेली, एक प्रकार का छपप्य ।
करतलगत—(सं. वि.) हाथ में आया हुआ ।
करतली—(हि. स्त्री.) हथेली, ताली, गाड़ीवान के बैठने का स्थान ।
करतव्य—(हि. पुं.) देरों 'कर्तव्य' ।
करता—(हि. पुं.) कर्ता, करनेवाला, एक वृत्त विशेष; -घरता-(पुं.) घर का मालिक, सारा प्रदंघ या व्यव करनेवाला मालिक ।
करतार—(हि. पुं.) कर्तार, विघाता, करताल ।
करतारी—(हि. स्त्री.) हथेलियों में ताली बजाने का शब्द, एक प्रकार का वाजा ।
करताल—(सं. पुं.) दोनों हाथों से ताली बजाने का शब्द, करताल-ध्वनि, सारंग, मँजीरा, हाथ से बजाने का लकड़ी का कासे का एक यन्त्र ।
करती—(हि. स्त्री.) मरे बछड़े का चमड़ा जिसमें मूत्र भरकर गाय को दिताकर दूध दुहा जाता है ।
करतूत, करतूति—(हि. स्त्री.) कर्तव्य, काम, करनी, करतव, कला, गुण, कुकर्ण ।
करद—(सं. वि.) राजकार देनेवाला, आश्रय देनेवाला ।
करदल—(सं. वि.) गिल्दी, हाथ का कारीगर ।
करदन—(हि. पुं.) देरों 'करदम' ।
करदा—(हि. पुं.) गर्द, कड़ा-करकट, धन में मिली हुई मिट्टी इत्यादि, बट्टा, कटाँती, मूल्य में वह कमी जो किसी वस्तु में कड़ा-करकट निकालने पर हो ।
करदोता—(हि. पुं.) देरों 'दोता' ।
करधन, करधनी—(हि. स्त्री.) कमर में धरि-वने का आभूषण, कमर में पहिने या लड़ीदार सूत, एक प्रकार का धान ।
करधर—(हि. पुं.) मेघ, वायु, मनुष्य की रीति ।
करधूत—(सं. वि.) हाथ से पारना हुआ ।
करन—(हि. पुं.) देरों 'करनी' ।
करनार—(हि. पुं.) देरों 'करनार' ।
करनाकूल—(हि. पुं.) पुत्राचार नाम का एक यन्त्र ।
करनवेध—(हि. पुं.) करपीय, करनी के काम करने का एक यन्त्र ।
करना—(हि. पुं.) मरे बछड़े का चमड़ा, कर्ता, कर्तव्य, एक प्रकार का यन्त्र

नीवू, कार्य, काम; (क्रि. स.) समाप्ति पर लाना, निवटाना, बनाना, पकाना, नेजना, पहुँचाना, लगाना, व्यवसाय चलाना, भाड़ा ठहराना, रूप बदलाना, उठाना, दीपक बुझाना, मारना, रँगना, रौबना, ले जाना, पति या पत्नी बनाना, भाड़े पर सवारी लेना, कोई पद देना; (इस शब्द को अधिकांश संज्ञाओं या विशेषणों के साथ लगा देने से उन शब्दों का क्रिया-प्रयोग बन जाता है।)

करनाई—(हि. स्त्री.) तुरही।

करनाटक—(हि. पुं.) मद्रास प्रान्त का एक प्रदेश।

करनाटकी—(हि. पुं.) करनाटक प्रदेश-वासी, नट, इन्द्रजाल दिखलानेवाला।

करनाल—(हि. पुं.) नरसिंघा मोंपा, बड़ा ढोल, एक प्रकार की तोप।

करनी—(हि. स्त्री.) कर्म, करतूत, कार्य, करतव, अन्त्येष्टिक्रिया, मृतक-संस्कार, राजगीरों का वह यंत्र जिससे वे मसाला उठाते और भीत पर लगाकर इसको चिकनाते हैं; -घरनी—(स्त्री.) करतूत, विवाह, कन्या की विदाई आदि संस्कारों में दिया जानवाला घन, उपहार आदि।

करन्यास—(सं. पुं.) तन्मोक्त मन्त्र उच्चारण करते हुए अँगुली तथा हाथ के भिन्न भागों को स्पर्श करना।

करपंदाज—(सं. पुं.) कमल के समान हाथ।
करपर—(हि. पुं.) खोपड़ी; (वि.) कृपण, कंजूस।

करपरी—(हि. स्त्री.) वरी, मुंगीरी।

करपलई—(हि. स्त्री.) देखें 'करपल्लवी'।

करपल्लव—(सं. पुं.) अँगुली, हाथ।

करपल्लवी—(सं. स्त्री.) अँगुलियों के संकेत से शब्दों को प्रकट करने की विद्या, हाथ के संकेत की वातचीत।

करपात्र—(सं. पुं.) हस्तरूप पात्र।

करपाल—(सं. पुं.) खड्ग, तलवार।

करपालिका, करपाली—(सं. स्त्री.) हाथ की छोटी छड़ी, छुरा, मुद्गर।

करपीडन—(सं. पुं.) विवाह, पाणिग्रहण।

करपुट—(सं. पुं.) श्रद्धांजलि, अंजलि।

करपूठ—(सं. पुं.) हाथ का पिछला भाग।

करप्रद—(सं. वि.) कर देनेवाला।

करप्राप्त—(सं. वि.) हाथ में आया हुआ।

करवच—(हि. स्त्री.) बल या धोड़ पर लड़ने की सुरवी।

करवला—(अ. स्त्री.) अरब का वह स्थान जहाँ प्रामाम दुसन अपने साधियों के साथ गहौद हुए थे।

करवस—(हि. पुं.) एक प्रकार का चावुक।

करवाल—(सं. पुं.) नख, तलवार।

करवी—(हि. स्त्री.) चौपायों का खाना, चरी, ज्वार या मकई के हरे पौधे जो काटकर चौपायों को खिलाया जाता है।

करवूस—(हि. पुं.) रस्सी (या तस्मा) जो घोड़े के जीत में शस्त्र लटकाने के लिये लगी होती है।

करभ, करभक—(सं. पुं.) करपूठ, हथेली के पीछे का भाग, हाथी की सूँड़, हाथी का वच्चा, ऊँट या ऊँट का वच्चा, नखी नामक सुगन्धित औषधि, कटि, कमर, एक प्रकार का दोहा जिसमें सोलह गुरु और सोलह लघुवर्ण होते हैं।

करभी—(सं. स्त्री.) हथिनो, ऊँटनी।

करभीर—(सं. पुं.) सिंह, शेर।

करभूषण—(सं. पुं.) हाथ का आभूषण।

करभोर—(सं. स्त्री.) गोल जाँघवाली स्त्री।

करस—(हि. पुं.) कर्म, काम, भाग्य, प्रारब्ध; (मुहा.)—काधनी—भाग्यवान्; -फूटना—भाग्यहीन होना; -रेख—(पुं.) भाग में लिखा हुआ भोग।

करमई—(हि. स्त्री.) कचनार के समान एक वृक्ष।

करमकल्ला—(हि. पुं.) वन्दगोभी, एक प्रकार की गोभी जिसमें पत्ते पुष्पाकार होते हैं, पातगोभी।

करमचंद—(हि. पुं.) कर्म, भाग्य, प्रारब्ध।

करमट्टा—(हि. वि.) कृपण, कंजूस।

करमठ—(हि. वि.) कर्मनिष्ठ, कर्मकाण्ड करानेवाला।

करमनासा—(हि. स्त्री.) देखें 'कर्मनाशा'।

करमर्द, करमर्दक—(सं. पुं.) करंज, करीदा।

करमाल—(हि. पुं.) कर्म, भाग्य; (सं. पुं.) घुआँ, मेघ, बादल।

करमाला—(सं. स्त्री.) अँगुलियों के पोर की जपनी।

करमाली—(सं. पुं.) सूर्य।

करमी—(हि. वि.) कर्मकार, काम करनेवाला, कर्मठ।

करमूहा—(हि. वि.) काले मुखवाला, कलंकयुक्त।

करमुपल—(सं. वि.) हाथ से छूटा हुआ, बिना कर का; (पुं.) बरछा।

करमूल—(सं. पुं.) मणिवन्ध, कलाई।

करमेस—(हि. पुं.) करगह के ऊपर बंधा हुआ काठ।

करमोद—(हि. पुं.) एक प्रकार का धान।

करर—(हि. पुं.) एक विपैला कीड़ा जिसका शरीर ग्रन्थिमय होता है, जंगली कुसुम

का वृक्ष, एक विशेष रंग का घोड़ा
कररना, करराना—(हि. क्रि. अ.) कर्क शब्द करना, मरमराना, परपराना कठोर शब्द कहना।

कररान—(हि. स्त्री.) धनुष चढ़ाने का शब्द

कररी—(हि. स्त्री.) वनतुलसी, कुररी पत्त।

कररुद्ध—(सं. वि.) हाथ से रोका हुआ।

कररुह—(सं. पुं.) नख, अँगुली, तलवार, नखी नामक सुगन्धित औषधि।

कररेखा—(सं. स्त्री.) हाथ में की लकीर।

करल—(सं. पुं.) कैथ का वृक्ष; (हि. पुं.) कड़ाहा।

करला—(हि. पुं.), करली—(हि. स्त्री.) अंकुर, कल्ला।

करवट—(हि. स्त्री.) दाहिने या बायें बल लेटने की स्थिति, करपत्र, आरा; (मुहा.)—बदलना—पलटा खाना, भिन्न स्थिति में होना; -लेना—देखें 'करवट बदलना'।

करवत—(हि. पुं.) करपत्र, आरा।

करवर—(हि. स्त्री.) विपद्, आपत्ति, संकट।

करवरना—(हि. क्रि. अ.) कोलाहल करना, चहकना।

करवल—(हि. स्त्री.) काँसा मिली हुई चाँदी।

करवा—(हि. पुं.) धातु या मिट्टी का टोंटीदार लोटा, गड़ुवा, बघना, कौनिया, धोरिया।

करवा चौथ—(हि. स्त्री.) कार्तिक वदी चौथ का दिन, सौभाग्यवती स्त्रियाँ इस चतुर्थी को गौरी का व्रत करती हैं।

करवाना—(हि. क्रि. स.) किसी काम को करने के लिये दूसरे को प्रवृत्त करना।

करवार, करवाल—(सं. पुं.) कृपाण, तलवार, नख।

करवालिका—(सं. स्त्री.) छोटी गदा।

करवाली—(हि. स्त्री.) छोटी तलवार, करौली।

करवीर—(सं. पुं.) कृपाण, तलवारें श्मशान, मरघट, कनेर या करील का वृक्ष।

करवैया—(हि. पुं, वि.) कर्ता, करनेवाला।

करशाखा—(हि. स्त्री.) अँगुली।

करप—(हि. पुं.) कर्प, खिचाव, तनाव, द्रोह, ताव, लड़ने का उरसाह।

करपक—(हि. पुं.) देखें 'कर्पक'।

करपना—(हि. क्रि. स.) धसीटना, तानना, खींचना, समेटना, सुखाना, सोख लेना, निमन्त्रित करना, न्योता देना।

करस—(हि. पुं.) कंडे का चूर, करसी।

करसना—(हि. क्रि. स.) खींचना, धसीटना, सोखना, एकत्र करना, समेटना।

करसा—(हि. पुं.) देखें 'करस' ।
 करसान—(हि. पुं.) कृपाण, किसान ।
 करसायर, करसायल—(सं. पुं.) कृष्ण-सार, काला हिरन ।
 करसी—(हि. स्त्री.) कंडे का चूरचार, उपला, मोहरी ।
 करसूत्र—(सं. पुं.) मंगलार्थ हाथ में बांधा हुआ सूत्र, रक्षा-बंधन, कंगन ।
 करस्वन—(सं. पुं.) हस्तध्वनि, ताल ।
 करहंस—(सं. पुं.) एक प्रकार का वर्णवृत्त ।
 करह—(हि. पुं.) करम, ऊँट ।
 करहनी—(हि. पुं.) एक अगहनी वान ।
 करहा—(हि. पुं.) श्वेत सिरिस का वृक्ष ।
 करहाट, करहाटक—(सं. पुं.) मैनफल ।
 करही—(हि. स्त्री.) अन्न की बाल का दाना जो कूटने-पीसने पर भी वच जाता है ।
 करान्कुल—(हि. पुं.) देखें 'कलान्कुल', क्रींच ।
 करान्त—(हि. पुं.) करपत्र, आरा ।
 करती—(हि. पुं.) आराकश, आरा चलानेवाला ।
 कराइत—(हि. पुं.) एक काली जाति का विपला सर्प ।
 कारई—(हि. स्त्री.) मूंग, उर्द, रहर इत्यादि की दाल पर की भूसी, दाल का छिलका, श्यामता, कालापन, किसी कार्य के कराने या करने का भाव ।
 काराग्र—(सं. पुं.) हाथ का अग्र भाग, हाथी की सूँड़ का सिरा ।
 काराघात—(सं. पुं.) हाथ की मार, धूँसा, थप्पड़ ।
 काराट—(सं. पुं.) थप्पड़, तमाचा ।
 काराड़—(हि. पुं.) माल मोल लेनेवाला महाजन ।
 कारात—(हि. पुं.) चार जव की तील जो सोना-चाँदी तथा दवा तोलने में प्रयुक्त होती है; (अं. करैट) सोने आदि की तील ।
 काराना—(हि. क्रि. स.) कार्य में लगाना, करवाना ।
 कारायल—(हि. पुं.) मूंग या उड़द का छिलका, कलौंजी ।
 कारार—(हि. पुं.) नदी का ऊँचा तट, कगार; (अ. पुं.) इकरार, प्रतिज्ञा ।
 कारारना—(हि. क्रि. अ.) कर्कश शब्द करना ।
 कारारा—(हि. पुं.) नदी का ऊँचा तट जो धारा धारा काटे जाने पर बनता है, डील, टूट, कौचा, एक प्रकार की मिट्टी; (वि.) कठोर, कड़ा, तीव्र, स्थिर-निश्च, कड़ा मेंना हुआ, मुरमुरा, उन्नम, धोगा, मरा, कड़ा भारी, बलवान, अधिक महरा ।

कारारापन—(हि. पुं.) अधिक गहराई, कड़ापन ।
 कारारी—(हि. वि.) प्रतिज्ञा करनेवाला, वचनबद्ध ।
 कारापित—(सं. वि.) हाथ में दिया हुआ ।
 काराल—(सं. वि.) बड़े दाँतवाला, ऊँचा, भयंकर, डरावना, प्रशस्त, खला हुआ; (पुं.) कस्तूरी मूग, गन्धर्व विशेष, काला बबूल ।
 कारालवदना—(सं. स्त्री.) काली भयंकर मुखवाली स्त्री ।
 कारालित—(सं. वि.) भयंकर किया हुआ ।
 काराली—(सं. स्त्री.) अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक; (वि. स्त्री.) भयंकर, डरावनी ।
 काराव, कारावा—(हि. पुं.) विवाहादि कर्म, सगाई ।
 काराह—(सं. पुं.) वेदनासूचक शब्द, पीड़ा का शब्द, कड़ाह, लोहे की बड़ी कड़ाही ।
 काराहना—(हि. क्रि. अ.) पीड़ित शब्द से बोलना, काँखना, हाथ-हाथ करना ।
 काराहा—(हि. पुं.) बड़ी कड़ाही ।
 काराही—(हि. स्त्री.) छोटा कड़ाहा, कड़ाही ।
 कारिगा—(हि. पुं.) छिठोलिया ।
 कारिद—(हि. पुं.) देखें 'करौद्र' ।
 करि—(हि. पुं.) करी, हाथी ।
 करिकर—(सं. पुं.) हाथी की सूँड़ ।
 करिकुंभ—(सं. पुं.) गजकुम्भ, हाथी के मस्तक का भाग ।
 करिखई—(हि. स्त्री.) कालिय, कलंक ।
 करिखा—(हि. पुं.) कालिख, कलंक ।
 करिगह—(हि. पुं.) देखें 'करगह' ।
 करिणी—(सं. स्त्री.) हस्तिनी, हथिनी ।
 करिपोत—(सं. पुं.) हाथी का बच्चा, हाथी बचन का सूँटा ।
 करिवू—(हि. पुं.) एक प्रकार का शारहसिगा ।
 करिभ—(सं. पुं.) अदवस्थ, पीपल का वृक्ष ।
 करिया—(हि. पुं.) पतवार, कर्णवार, मल्लाह; (वि.) काला ।
 करियाई—(हि. स्त्री.) नीलता, कालापन ।
 करियाद—(सं. पुं.) दरियायी घोड़ा ।
 करियारी—(हि. स्त्री.) कलियारी, एक विष, लगाम ।
 करिल—(हि. पुं.) कौपल, कौमल पत्ता; (वि.) काला ।
 करिचदन—(सं. पुं.) गणेशजी ।
 करिचर—(सं. पुं.) श्रेष्ठ हस्ती, उत्तम हाथी ।
 करिचारी—(हि. वि.) कृष्णवर्ण, काला ।
 करिचणु—(सं. पुं.) करनेवान, करनेशील ।
 करिचमाण—(सं. वि.) करने के विधि उद्यत, भारी कार्य में लगा हुआ ।

करिहांव—(हि. पुं.) कटि, कमर, कोल्हू का मध्य भाग ।
 करौद्र—(सं. पुं.) उन्मत्त का हाथी, ऐरावत ।
 करी—(सं. पुं.) हाथी, आठ की संख्या; (हि. स्त्री.) कड़ी, घरन, कली, पन्द्रह मात्राओं का एक छन्द ।
 करीना—(हि. पुं.) छैनी, पत्थर गड़ने की टांकी, मसाला, केराना ।
 करीर—(सं. पुं.) वाँस का अँसुवा या कल्ला, घड़ा, करील का वृक्ष ।
 करील—(हि. पुं.) एक कौटोली झाड़ी; देखें 'करीर' ।
 करीश—(सं. पुं.) गजराज, हाथियों का राजा ।
 करीप—(सं. पुं.) सूखा गोबर, जंगल में सूखा हुआ गोबर, कण्डा, भरना ।
 कसआ—(हि. वि.) देखें 'कसवा' ।
 कसआई—(हि. स्त्री.) कटुवापन ।
 कसआ(बा)ना—(हि. क्रि. अ.) दुराना, गड़ना, बुरा लगना ।
 कसखी—(हि. स्त्री.) कनखी, तिरछी चितवना ।
 कसण—(सं. पुं.) एक प्रकार के नीबू का वृक्ष, शृंगारादि आठ रसों के अन्तर्गत तीसरा रस, बन्धु-बान्धवों के विधाय से उत्पन्न भाव, दया, दूसरे के दुःख को दूर करने की इच्छा, परमेस्वर, एक बुद्ध का नाम; (वि.) दयनीय, दयालु ।
 कसणा—(सं. स्त्री.) दूसरे का दुःख हटाने की इच्छा, दया, तरस, दुगा शोक, गंगाजी का एक नाम ।
 कसणाकर—(सं. वि.) अत्यन्त दयालु ।
 कसणादृष्टि—(सं. स्त्री.) दया की दृष्टि ।
 कसणानिधान, कसणानिधि—(हि. वि.) बड़ा दयालु ।
 कसणामय—(सं. वि.) अत्यन्त दयालु ।
 कसणामुक्त—(सं. वि.) देखें 'कसणामय' ।
 कसना—(हि. स्त्री.) देखें 'कसणा' ।
 कसर, कसवा—(हि. वि.) कटु, कटुता ।
 कसवाई—(हि. स्त्री.) कटुता, कटुवापन, तीखापन ।
 कसवार—(हि. पुं.) नाव की पतवार ।
 कसला—(हि. पुं.) नाव का एक प्रकार का कंकण ।
 कसय—(सं. पुं.) एक प्राचीन देश जो रामायण के अनुसार महाभारत पर महाकाव्य में वर्णित था, नाव का राक्षसी यही काली थी, बखर प्रा. ।
 कसयच—(सं. पुं.) वैद्यक कसु के पुत्र का नाम, पतङ्गना ।
 कसेज—(हि. पुं.) कसु, धरे कसेज ।
 कसेजी—(हि. स्त्री.) कसु के कसेज का नाम ।

करेट-(सं. पुं.) नख ।
करेणु-(सं.पुं) गज, हाथी, कनेर का वृक्ष ।
करेणुका-(सं.स्त्री) हस्तिनी, हथिनी ।
करेव-(हि.स्त्री.) एक प्रकार का पतला देशी वस्त्र जिसको अंग्रेजी में 'ब्रेम' कहते हैं ।
करेम, करेमु-(हि. पुं.) जल में उत्पन्न होनेवाली एक घास जो शाक बनाकर खाई जाती है ।
करेर(रा)-(हि. वि.) कठोर, कड़ा ।
करेरखा-(हि. पुं.) एक प्रकार की कांटेदार लता ।
करेल-(हि.पुं.) एक प्रकार का बड़ा मुद्गर ।
करेला-(हि.पुं., सं. कारवेल्ल) एक प्रकार की लता जिसमें हरे कड़े फल लगते हैं जो तरकारी बनाने के काम में आते हैं, हुमेल की लंबी गुरिया, एक प्रकार की अग्नि-क्रोड़ा ।
करेली-(हि.स्त्री.) एक प्रकार का छोटा करेला ।
करेत-(हि. पुं.) एक काली जाति का बहुत विपैला सर्प, करइत ।
करेल-(हि.स्त्री.) एक प्रकार की काली मिट्टी जो गरमी के दिनों में तालाब का पानी सूखने पर निकलती है, यह बड़ी कड़ी तथा लसदार होती है; करेली मिट्टी-(स्त्री.) काली मिट्टी ।
करेला-(हि. पुं.) देखें 'करेला' ।
करोट-(हि. पुं.) करवट ।
फरोट-(सं. पुं.) मस्तक की हड्डी; (हि. पुं.) देखें 'करवट' ।
फरोड-(हि.वि.पुं.) एक कोटि, सो लाख की संख्या; -पति-(वि. पुं.) जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, बहुत धनी ।
फरोड़ी-(हि. पुं.) कोपाव्यक्ष, रोकड़िया ।
फरोत-(हि. पुं.) आरा, करपत्र ।
फरोदक-(सं.पुं.) हाथ में रखे हुए जल ।
फरोदना-(हि.क्रि.सं.) खुरचना, फरोना ।
फरोना-(हि.क्रि.सं.) किसी चोखी चीज से रगड़ना, खुरचना ।
फरोनी-(हि. स्त्री.) खुरचन, फरोचन, खुरचने का यन्त्र ।
फरोर-(हि. वि, पुं.) देखें 'फरोड़' ।
फरोला-(हि.पुं.) फरवा, गड्ढा, रीछ, भालू ।
फरोटा-(हि.वि.) कुछ श्याम वर्ण का, सांवल ।
फरोगी-(हि. स्त्री.) कलंगी, श्याहजीरा ।
फरोड-(हि. पुं.) देखें 'करवट' ।
फरोदा-(हि. पुं.) करमदं वृक्ष, एक मद्योत्पादक पौधा जिसके छोटे लड़े फल अन्ध, चटनी इ० में प्रयुक्त होते हैं, भांग के नीचे निकालनेवाली गिलटी ।

करौदिया-(हि.वि.) करीदे के रंग का ।
करौत-(हि. पुं.) करपत्र, आरा; (स्त्री.) उदरी स्त्री ।
करौता-(हि. पुं.) करावा, बड़ी शीशी; (स्त्री.) उदरी स्त्री ।
करौती-(हि. स्त्री.) करपत्र, आरा, छोटी शीशी, कांच गलाने की मट्टी ।
करौना-(हि. पुं.) कसेरे की छोटी छेनी ।
करौल-(हि. पुं.) आखेट हांकनेवाला ।
करौली-(हि. स्त्री.) नोकदार मोंकने की छुरी ।
ककंधु-(सं.पुं.) शरखेर का वृक्ष, इसका फल, बेर ।
ककं-(सं. पुं.) श्वेत घोड़ा, केकड़ा, अग्नि, दर्पण, तिल, कांटा, काकड़ासिंधी, घड़ा, बेल का वृक्ष, गन्धक, ककंट राशि; (वि.) श्रेष्ठ, उत्तम; -रेखा-(स्त्री.) भूमध्य रेखा से २३^३/_४° उत्तर की ओर कल्पित वृत्त रेखा ।
ककंट-(सं. पुं.) करकटिया का वृक्ष, केकड़ा, कमल की जड़, तुम्बी, लौकी, वारह राशियों में से चौथी राशि, कलश, घड़ा, कांटा, सेम्हर का वृक्ष, बड़ी सेंडसी, एक प्रकार का नाच ।
ककंटक-(सं. पुं.) केकड़ा, ककंट राशि, हड्डी टूटने का रोग, एक प्रकार का विष, जंगली आंवला ।
ककंटकी-(सं. स्त्री.) काकड़ासिंधी, मादा 'केकड़ा' ।
ककंट क्रांति-(सं. स्त्री.) भूमध्य रेखा से साढ़े तेईस अंश उत्तर-स्थित अक्षरेखा ।
ककंटा-(सं. स्त्री.) काकड़ासिंधी, खेखसा की लता ।
ककंटी-(सं. स्त्री.) ककड़ी, सेम्हर का वृक्ष, फूट, गगरी, तरौई, एक प्रकार का वृक्ष ।
ककंर-(सं. पुं.) कंकड़, हथौड़ा, एक प्रकार का साँप, दर्पण, हड्डी, कुरंज पत्थर जिसका सान बनता है; (वि.) दूढ़, कड़ा, पुष्ट ।
ककंश-(सं. पुं.) कमीले का वृक्ष, परवर, एक प्रकार की ईख, खडग या तलवार, दालचीनी; (वि.) निर्दय, कठोर, कटा, कांटेदार, क्रूर, दुर्वोध, कृपण ।
ककंदाता-(सं. स्त्री.) देखें 'ककंशत्व' ।
ककंशत्व-(सं. पुं.) कठोरता, कड़ापन ।
ककंशा-(सं. स्त्री.) अगड़ालू स्त्री; (वि. स्त्री.) लड़ाकी ।
ककंशक-(सं.पुं.) कूमाण्ड, कुम्हड़ा, तरबूज ।
ककौं-(सं. स्त्री.) ककड़ी ।

ककौंट-(सं.पुं.) नागराज, सर्पों का राजा ।
ककौंटक-(सं. पुं.) बेल का वृक्ष, नागराज, ईख, कोड़ा, खेखसा ।
ककौरिका-(सं. स्त्री.) कचौड़ी ।
ककूर-(सं. पुं.) सोना, कचूर, आमा-हृदी, जंगली अदरक ।
ककंज-(अ.पुं.) ऋण, उधार; (मुहा.)-खाना ऋण लेना ।
ककंजदार-(अ. पुं.) ऋण लेनेवाला ।
ककजा-(हि. पुं.) ऋण, उधार ।
ककजी-(हि. वि.) जिसने ऋण लिया हो ।
ककण-(सं. पुं.) श्रवणेन्द्रिय, कान, पतवार, कुन्ती के सबसे बड़े पुत्र का नाम जो बड़ा दानी था, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की रेखा; -क-(पुं.) तने को फोड़कर निकलनेवाला पत्ता, सन्निपात रोग का एक भेद, कर्णधार, माझी; -कट्ट-(सं.वि.) अप्रिय, कान में ककंश लगनेवाला; -किट्ट-(पुं.) कान का खूंट; -कुहर-(पुं.) कान का छेद; -गोचर-(वि.) कान से सुनाई पड़नेवाला; -ग्राह-(पुं.) कर्णधार, मल्लाह, माँझी; -जाप-(पुं.) गुप्तवार्ता, काना-फूसी; -जोरक-(पुं.) छांटाजीरा; -धार-(पुं.) नाविक, मल्लाह, दुःखादि का निवारक, पतवार; -धारता-(स्त्री.) नाविक का काम; -नाद-(पुं.) कान में सुनाई देनेवाला शब्द; -परंपरा-(स्त्री.) एक कान से दूसरे कान तक सुनी हुई पुरानी बात; -पाक-(पुं.) कान का एक रोग; -पाली-(स्त्री.) कान की वाली, एक प्रकार का गीत; -पिशाची-(स्त्री.) एक देवी जिसके सिद्ध करने पर साधक जो चाहे सो सुन सकता है; -पुट-(पुं.) कान का छेद; -पुरी-(स्त्री.) चम्पा नगरी, आधुनिक भागलपुर; -पूर-(पुं.) कान का आभूषण, करनफूल; -मूल-(पुं.) कान का एक रोग जिसमें इसकी जड़ में सूजन आ जाती है; -लता, लतिका-(स्त्री.) कान की वाली; -वेध-(स्त्री.) बालकों के कान छेदने का संस्कार या विधि; -वेघनी-(स्त्री.) कान छेदने की सूई; -शाफुली-(स्त्री.) कान का परदा ।
कर्णाट, कर्णाटक-(सं. पुं.) भारतवर्ष के दक्षिण का एक देश, एक राग विशेष जो रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है ।
कर्णाटी-(सं. स्त्री.) कर्णाटक देश की स्त्री, एक प्रकार-की रागिणी, कर्णाटक देश की भाषा ।

कणि—(सं. पुं.) एक प्रकार का तीर ।
 कणिका—(सं. स्त्री.) कान का एक आभूषण, हाथ के बीच की अँगुली, हाथी की सूँड़ की नोक, कमल का छत्ता, लेखनी, सेवती, श्वेत गुलाब, डंठल, तीव्र वेदना, एक अप्सरा का नाम ।
 कणिकार—(सं.पुं.) कनकचम्पा का वृक्ष ।
 कर्णो—(सं. पुं.) एक प्रकार का तीर, कनपटो; (वि.) ग्रन्थियुक्त ।
 कर्तन—(सं. पुं.) छेदन, काट-छाँट, सूत कातने का काम ।
 कर्तनी—(सं. स्त्री.) कतरनी, कैंची ।
 कर्तव—(हिं. पुं.) देखें 'कर्तव', कर्तव्य ।
 कर्तारिका—(सं. स्त्री.) कतरनी, कैंची, कटारी, छोटा कृपाण ।
 कर्तरी—(सं. स्त्री.) कैंची, कटारी, एक प्रकार का बाजा ।
 कर्तव्य—(सं. वि.) करने योग्य, किये जाने योग्य; (पुं.) करने योग्य कार्य, धर्म, उचित काम; -ता—(स्त्री.) विद्यता, आँचित्य, उपयुक्त उपाय; -विमूह (वि.) जिसको अपना कर्तव्य न सूझे ।
 कर्तव्याकर्तव्य—(सं. पुं.) मला बुरा काम ।
 कर्ता—(सं. पुं.) ब्रह्मा, काम करनेवाला, बनानेवाला, ईश्वर, व्याकरण में वह कारक जो क्रिया को करता है ।
 कर्तार—(हिं.पुं.) कर्ता, करनेवाला, विधाता, परमेश्वर, संसार को बनानेवाला ।
 कर्तित—(सं. वि.) काटा-छाँटा हुआ, कतरा हुआ ।
 कर्तृक—(सं. वि.) करनेवाला, प्रतिनिधि ।
 कर्तृका—(सं. स्त्री.) छोटी तलवार, कटारी ।
 कर्तृव—(सं. पुं.) कर्ता का धर्म ।
 कर्तृवाचक—(सं. वि.) व्याकरण में कर्ता का बोध करानेवाला (क्रिया-प्रयोग) ।
 कर्तृवाच्य—(सं. पुं.) क्रियापद द्वारा कर्ता का सूचित करनेवाला वाक्य ।
 कर्तृवाच्य क्रिया—(सं. स्त्री.) वह क्रिया जिससे कर्ता का बोध स्पष्ट रूप से विदित हो ।
 कर्त्यों—(सं. स्त्री.) कतरनी, कैंची; (वि. स्त्री.) काम करनेवाली ।
 कर्द—(सं. पुं.) कर्दम, कौचड़, चहला ।
 कर्दक—(सं. पुं.) पंक्त, कौचड़, चहला, बीच, पाप, छाया, परछाँही, स्वयन्मुख मन्मथार के विशेष प्रजापति, मिट्टी, मट, गुड़ा, माँग, नेत्र का एक रोग ।
 कर्दन—(सं. पुं.) पेट की गुद्गुड़ाहट का रोग ।
 कर्दन्त—(सं. वि.) कौचड़ विना गुड़ा ।

कर्नेता—(हिं.पुं.) एक विशेष रंग का घोड़ा ।
 कर्पट—(सं. पुं.) पुराना कपड़ा, गूदड़ ।
 कर्पटो—(सं. वि.) फटा-पुराना वस्त्र पहिननेवाला मिझुक ।
 कर्पर—(सं. पुं.) कपाल, खोपड़ी, कड़ाह, कड़ाहा, कछुवे की खोपड़ी, खप्पर, खपड़ा, गूलर का वृक्ष, कपोल, गाल, चीनी, शर्करा ।
 कर्पराशी—(सं. पुं.) वटुक भैरव ।
 कर्परी—(सं. स्त्री.) दारुहल्दी, तृतिया, खपड़िया ।
 कर्पास—(सं. पुं.) कपास का पौधा; -फल—(पुं.) विनोला ।
 कर्पूर—(सं. पुं.) कपूर ।
 कर्पूरक—(सं. पुं.) कच्ची हल्दी, कचूर ।
 कर्पूरगौर—(सं. वि.) कपूर जैसा गौरा ।
 कर्पूरगौरी—(सं. स्त्री.) एक रागिनी ।
 कर्वर—(सं. पुं.) कर्वर, सोना, धतूरे का वृक्ष, व्याघ्र ।
 कर्वुर—(सं. पुं.) स्वर्ण, धतूरे का पौधा, कचूर, आमाहल्दी, जल, राक्षस, पाप, हस्ताल, जड़हन घान; (वि.) अनेक वर्णों का, चितकवरा ।
 कर्वुरित—(सं. वि.) चित्रित, चितकवरा ।
 कर्म (सं. पुं.) कार्य, क्रिया, जो किया ज वे, काम, प्रारब्ध, भाग्य, मृतक-संस्कार, व्याकरण में वह शब्द जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वैदोपिक के छः पदार्थों में से एक, भीमांसा के अनुसार यज्ञ आदि कार्य या कर्तव्य; जैसे—ब्राह्मणों के छः कर्म शास्त्रों में कहे हैं; यथा—अध्ययन, यजन, दान देना, अव्यापन, याजन और दान लेना ।
 कर्मकर—(सं. वि.) वेतन पर काम करनेवाला; (पुं.) यम ।
 कर्मकरी—(सं. स्त्री.) दासी, बाँदी, एक लता का नाम ।
 कर्मकर्ता—(सं. पुं.) कार्यकारक, काम करनेवाला, व्याकरण में वह वाच्य जिसमें कर्तृत्व की विवधा से दूसरा शब्द कर्ता होता है ।
 कर्मकांड—(सं.पुं.) धर्म संबंधी कर्म, यज्ञादि ।
 कर्मकांडी—(सं. वि.) विधिवत् यज्ञादि कर्म करानेवाला ब्राह्मण ।
 कर्मकार—(सं. वि.) बिना वेतन का नाम करनेवाला, काम करनेवाला; (पुं.) लोहार ।
 कर्मकुशल—(सं. वि.) काम करने में चतुर ।
 कर्मवीर—(सं. पुं.) धर्म करने का मर्म, सारतर्क ।

कर्मचारी—(सं. वि.) कार्य करनेवाला, वेतन पर काम करनेवाला ।
 कर्मठ—(सं. वि.) काम करने में निपुण ।
 कर्मण्य—(सं. वि.) कर्मठ, उद्यमी, प्रयत्न करनेवाला ।
 कर्मण्यता—(सं. स्त्री.) कार्य-तत्परता ।
 कर्मवक्ष—(सं. वि.) काम करने में निपुण ।
 कर्मधारय—(सं.पुं.) संस्कृत व्याकरण में वह समास जिसमें विशेषण और विशेष्य का समान अधिकरण होता है ।
 कर्मनाशा—(सं. स्त्री.) बिहार प्रान्त की एक प्रसिद्ध नदी ।
 कर्मनिरत, कर्मनिष्ठ—(सं. वि.) योगादि कर्म में आसक्त ।
 कर्मपंचम—(सं.पुं.) एक रागिणी का नाम ।
 कर्मपाक, कर्मफल—(सं. पुं.) धर्म या अधर्म करने से सुख-दुःख मिलने का परिणाम ।
 कर्मबंधन—(सं.पुं.) जन्म-मरण ।
 कर्मभू—(सं. स्त्री.) आर्यावर्त ।
 कर्मभूमि—(सं. स्त्री.) वह स्थान जहाँ मनुष्य को कार्य करना बड़ा हो, आर्यावर्त ।
 कर्मभोग—(सं. पुं.) कर्म के फल के अनुसार सुख-दुःख का भोग, कर्म का फल ।
 कर्ममास—(सं. पुं.) श्रावण का महीना ।
 कर्ममीमांसा—(सं. स्त्री.) पूर्वजन्म-कृत कर्म के सम्बन्ध में निर्णय करनेवाला शास्त्र विशेष ।
 कर्मयुग—(सं. पुं.) कलियुग ।
 कर्मयोग—(सं. पुं.) चित्त शुद्ध करने का वैदिक धर्म जिसके बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता ।
 कर्मयोगी—(सं. पुं.) ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा से यज्ञ, ध्यान आदि वैदिक धर्म करनेवाला ।
 कर्मरंग—(सं.पुं.) कामरूप का वृक्ष या फल ।
 कर्मर, कर्मरथ—(सं. पुं.) कामरूप का फल ।
 कर्मरेख (रत्न)—(सं. स्त्री.) कर्म की रेखा, भाग्य या तरदार ।
 कर्मवदा—(हिं. अर्थ.) कर्म के अर्थों ।
 कर्मवशाता—(सं. स्त्री.) काम में लगे रहने की अवस्था, होनहार ।
 कर्मवाच्य क्रिया—(सं. स्त्री.) जिस क्रिया में कर्म प्रधान होकर मुख्य रूप से कर्ता की लगान प्रयोग किया गया हो ।
 कर्मवाद—(सं. पुं.) भीमांसावाद ।
 कर्मवादी—(सं. वि.) भीमांसक, धर्म की सर्वप्रधान भावनेवाला ।
 कर्मवान (न्)—(सं. वि.) काम करनेवाला, कर्मनिष्ठ ।

कर्म-विपर्यय—(सं. पुं.) कर्म का व्यति-
क्रम, काम को उलट-फेर ।
कर्मविपाक—(सं. पुं.) पूर्व जन्म में किये
हुए शुभाशुभ कर्मों का मला-त्रुरा फल ।
कर्मशाला—(सं. स्त्री.) शिल्पादि कार्य
का गृह, कारखाना ।
कर्मशील—(सं. वि.) परिणाम की ओर न
विचार करके स्वभाव ही से काम करने-
वाला, उद्योगी, यत्न करनेवाला,
परिश्रमी ।
कर्मशूर—(सं. वि.) कार्यदक्ष, चतुर,
तत्परता से काम करनेवाला ।
कर्मप—(सं. पुं.) कल्मष, पाप ।
कर्मसंन्यास—(सं. पुं.) कर्म-त्याग, काम
छोड़कर बैठना, कर्मफल का त्याग ।
कर्मसंभव—(सं. वि.) कर्म से उत्पन्न;
(पुं.) कर्म की उत्पत्ति ।
कर्मसमाधि—(सं. पुं.) कर्म का शेष, मुक्ति ।
कर्मसाक्षी—(सं. पुं.) कर्म को प्रत्यक्ष
करनेवाला, सूर्य, यम, काल, पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु, आकाश; (वि.)
जिसके सामने कोई कार्य हुआ हो ।
कर्म-साधक—(सं. वि.) काम बनानेवाला ।
कर्म-साधन—(सं. पुं.) कार्य की सिद्धि ।
कर्मसिद्धि—(सं. स्त्री.) देखें 'कर्मसाधन' ।
कर्म-स्थान—(सं. पुं.) कर्मक्षेत्र, ज्योतिष
के अनुसार जन्मकुण्डली में अष्टम स्थान ।
कर्महीन—(सं. वि.) शुभ कर्म न करने-
वाला, मन्दभाग्य, अभाग्य ।
कर्मरिभ—(सं. पुं.) कार्य का आरम्भ ।
कर्मरि—(सं. पुं.) कर्मकार, लोहार ।
कर्मशिय—(सं. पुं.) कर्म के धर्माधर्म का गुण ।
कर्मिक—(सं. वि.) कर्मनिष्ठ, कामकाजी ।
कर्मिष्ठ—(सं. वि.) काम में लगा रहने-
वाला, काम करने में चतुर ।
कर्मनिष्ठता—(सं. स्त्री.) काम में लगे
रहने की अवस्था या भाव ।
कर्मि—(सं. वि.) कर्मनिष्ठ, कामकाजी, फल
की आकांक्षा से यज्ञादि कार्य करनेवाला ।
कर्मोर—(सं. वि.) चित्रित, चित्तकवरा ।
कर्मद्रिय—(सं. पुं.) शरीर की कर्म करने-
वाली पाँच इन्द्रियाँ; यथा-हाथ, पैर,
वाणी, गुदा और उपस्थ ।
कर्मोद्योग—(सं. पुं.) उद्योग का कार्य, प्रयत्न ।
कर्मो—(हि. पुं.) जुलाहे का सूत फैलाने
का काम; (वि.) कठोर, कड़ा ।
कर्मोना—(हि. क्रि. अ.) कड़ा पड़ना, कठोर
होना ।
कर्मोर—(सं. पुं.) व्याघ्र, राक्षस, पाप ।
कर्मोन—(सं. पुं.) दुर्बल बनाना ।

कश्चित—(सं. वि.) दुर्बल किया हुआ, कृशीकृत ।
कर्म—(सं. पुं.) सोलह माशो का परिमाण,
अस्सी रत्तियों की तौल, सुवर्ण, सोना,
आकर्षण, जोताई, हल से बनी हुई
रेखा, खरोंच, खेती का काम ।
कर्मक—(सं. वि.) खींचनेवाला, हल
जोतनेवाला; (पुं.) किसान, कृषक ।
कर्मण—(सं. पुं.) खींचना, जोतना, जुताई,
कूड़ ।
कर्मणीय—(सं. वि.) खींचे या जोते जाने योग्य ।
कर्मन—(हि. पुं.) खिचना, आकर्षण ।
कर्मना—(हि. क्रि. स.) खींचना ।
कर्मिणी—(सं. स्त्री.) खिरनी का पेड़ ।
कर्मित—(सं. वि.) आकर्षित, खींचा
हुआ, जोता हुआ ।
कर्मो—(सं. वि.) खींचनेवाला, मन को
प्रलोभित करनेवाला, मनोहर, सुन्दर;
(पुं.) हलवाहा, खेत जोतनेवाला ।
कर्मक—(सं. पुं.) चिह्न, ध्वज, दोष, अपवाद,
दुर्गम, लांछन, लोहे का मोरचा ।
कर्मककर—(सं. वि.) चिह्न लगानेवाला,
अपमानित करनेवाला ।
कर्मकधर—(सं. पुं.) चन्द्रमा ।
कर्मकमय—(सं. वि.) चिह्नित, ध्वेदार ।
कर्मकित—(सं. वि.) चिह्नयुक्त, अप-
मानित, दोषयुक्त, लांछित ।
कर्मकी—(सं. वि.) चिह्नयुक्त, अपमानित,
कर्मकित, अपराधी, दोषी; (पुं.) कल्क
अवतार ।
कर्मगड़ा—(हि. पुं.) तरबूज, एक प्रकार
का गाना ।
कर्मगा—(हि. पुं.) लोहे की ठठेरों की
नकाशी करने की छेनी ।
कर्मगी—(हि. स्त्री.) देखें 'कर्मगी' ।
कर्मदर—(सं. पुं.) एक वर्णसंकर जाति ।
कर्मदरी—(हि. स्त्री.) छोटा खेमा,
रेशमी बस्त्रों की छोलदारी ।
कर्म—(सं. वि.) अस्पष्टतया मधुर,
मंद, श्रुतिमधुर, कोमल; (पुं.)
अस्पष्ट मधुरध्वनि, वीर्य, साल वृक्ष ।
कर्म—(हि. अर्थ.) आनेवाला या वाद का
दिन, बीता हुआ या पिछला दिन;
(मुहा.)—का-कुछ दिनों का, बिलकुल
हाल का;—का छोकरा-उम्र में छोटा,
नादान;—की कल पर छोड़ना-
आगे का काम आगे के लिए टालना या
छोड़ना;—को-कल, कल के दिन ।
कर्म—(हि. वि.) काला का आदिपदिक रूप
(जैसे-कर्ममुहा) ।
कर्म—(हि. स्त्री.) आराम, चैन, शांति,

युक्ति, कौशल, यंत्र, मशीन, पेंच या
पुरजा;—बल—(पुं.) दाँव-पेंच; (मुहा.)
—एँठना या घुमाना—यंत्र चलाना, किसी
को अभीष्ट दिशा में प्रेरित करना;
—बेकल होना—ब्रेचैन होना;—हाथ न
होना—किसी की गतिविधि अपने वश
में रखना ।
कर्मइया—(हि. स्त्री.) कलावाजी, कलैया ।
कर्मई—(अ. स्त्री.) रांगा, रांगी का
मुलम्मा जो ताँवे या पीतल के बरतन
पर चढ़ाया जाता है, लेप, मुलम्मा,
चूने की पोताई, सफेदी, वास्तविकता
को छिपानेवाली बात, बनावट;—गर-
(पुं.) कर्मई करनेवाला;—दार-
(वि.) जिस पर कर्मई की गई
हो; (मुहा.)—खुलना—किसी का पोल
खुलना, वास्तविकता का पता चलना ।
कर्मकठ—(सं. पुं.) कोकिल, कोयल, हंस,
कन्नूर, तोता, मीठा शब्द; (वि.)
मीठा शब्द करनेवाला ।
कर्मकना—(हि. क्रि. अ.) चीत्कार करना,
चिल्लाना, चिघाड़ना ।
कर्मकफल—(सं. पुं.) दाड़िम वृक्ष, अनार
का पेड़ ।
कर्मकल—(सं. पुं.) कोलाहल, पानी के
झरने का शब्द, झगड़ा, हल्ला ।
कर्मकली—(हि. स्त्री.) क्रोध, रोष ।
कर्मकान, कर्मकानि—(हि. स्त्री.) कोला-
हल, कष्ट, दुःख ।
कर्मक, कर्मकी—(हि. पुं.) देखें 'कल्क' ।
कर्मकूजिका—(सं. वि. स्त्री.) मधुर स्वर में
बोलनेवाली, विलासिनी ।
कर्मकटर—(अं. पुं.) जिले का सर्वप्रधान
प्रशासनिक अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट ।
कर्मकटरी—(हि. स्त्री.) कलकटर का पद,
कलकटर की कचहरी; (वि.) कलकटर
सम्बन्धी ।
कर्मकट—(हि. पुं.) बड़ी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ा ।
कर्मका—(हि. पुं.) जटाघारी का पीघा ।
कर्मकी—(फा. स्त्री.) टोपी, पगड़ी का
फुंदना, मोर या मुर्गे के सिर पर की
चाँटी, सिर का एक आभूषण, ऊँची
इमारत का शीर्ष ।
कर्मकोप—(सं. पुं.) कोकिल, कोयल ।
कर्मचिड़ी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की
मधुर ध्वनि में बोलनेवाली चिड़िया ।
कर्मचुरी—(सं. पुं.) भारतवर्ष का एक
प्राचीन राजवंश, कार्तवीर्य राजा ।
कर्मछा—(हि. पुं.) बड़ा चम्मच, बड़ी
डाँधी की फरछल ।

कलछी—(हि.स्त्री.) बड़ी ढाँडी का चम्मच ।
 कलछल—(हि.स्त्री.) करछल, इसमें बड़ी
 ढाँडी के किनारे पर एक कटोरी होती है ।
 कलछला—(हि. पुं.) बड़ी करछल ।
 कलछलो—(हि. स्त्री.) छोटी करछल ।
 कलजिम्मा—(हि. वि.) काली जीम-
 वाला, अनिष्ट विषयों का बोलनेवाला,
 जिसकी कही हुई अशुभ बात सत्य हो ।
 कलजीहा—(हि. वि.) कलजिम्मा; (पुं.)
 काली जीम का हाथी ।
 कलखेवाँ—(हि.वि.) श्याम वर्ण का, साँवला ।
 कलट—(सं.पुं.) छाजन, छप्पर; (हि.पुं.)
 दुःख, संताप ।
 कलदोरा—(हि.पुं.) एक प्रकार का कवूतर ।
 कलत्र—(सं. पुं.) भार्या, पत्नी, स्त्री;
 -दान—(वि.) सस्त्रीक ।
 कलदार—(हि. वि.) पेंचदार; (पुं.)
 टकसाल का बना हुआ रुथ्या ।
 कलडुमा—(हि. वि.) काली पूँछवाला;
 (पुं.) काली दुम का कवूतर ।
 कलधूत—(सं.पुं.) चाँदी; (वि.) मयुर
 स्वर से भरा हुआ ।
 कलधौत—(सं.पुं.) सोना, चाँदी, अव्यक्त
 मयुर ध्वनि, मीठी बोली ।
 कलध्वनि—(सं.स्त्री.) कपोत, कवूतर, कोयल,
 मोर, मयुर ध्वनि ।
 कलन—(सं. पुं.) चिह्न, दोष, ग्रहण, ग्रास,
 कवर, जान, आचरण, संबन्ध, गणित
 की एक क्रिया, गर्भवेष्टन, गर्भ
 में शुक्र और रज का मिलकर एकलूप
 होना, एक महीने का गर्भ ।
 कलनाद—(सं. पुं.) कलहंस, मयुर ध्वनि,
 मीठी बोली ।
 कलप—(हि. पुं.) देखें 'कल्प' और
 'कल्प', खिजाव ।
 कल्पना—(हि.क्रि. अ.,न.) विलाप करना,
 दुःख करना, कल्पना करना, अटकल
 लगाना, काट-छांट करना; (हि. स्त्री.)
 देखें 'कल्पना' ।
 कल्पाना—(हि. क्रि., स.) तरसाना, दुःखी
 करना, मलाना ।
 कल्प—(हि.पुं.) चावल या अरारट का
 पतला लेप जो चरु को कड़ा करने के
 लिए इस पर पोता जाता है, गाड़ी,
 पहरे का कालापन, साँडे; -दार—(वि.)
 जिसमें कल्प दिया गया हो ।
 कलका—(हि. स्त्री.) दाखीनी, छाल ।
 कलक—(हि.पुं.) टेनू के फूल से निकाला
 हुआ रंग ।
 कलमेर—(हि. पुं.) गान्ध की तरह का

एक पौधा, इसकी जड़ रेसम रंगने के
 काम में आती है ।
 कलवूत—(हि. पुं.) कालवूत, राँचा,
 ढाँचा, जूता सीने का ढाँचा, गोलेंबर,
 टोपी बनाने या पगड़ी बाँधने का गाव-
 दुम ढोल ढाँचा, कालिय ।
 कलभ—(सं.पुं.) हाथी, ऊँट, घतूरे का वृक्ष ।
 कलभाषण—(सं.पुं.) मीठी बोली, बच्चों
 की बोली ।
 कलभी—(सं.स्त्री.) चंचु, चोंच, एक प्रकार
 का पीघा ।
 कलम—(अ. स्त्री.) लिखने का उपकरण,
 लेखनी, किसी पेड़ की हरी टहनी से
 उगाया जानेवाला पीघा या इसका डंग,
 कनपटियों पर के बाल या छुरे से उनकी
 सीध में कटाई, चित्रकार की कूची,
 लिखावट, लिपि, आदेश, हुकम; -कारी-
 (स्त्री.) कलम की कारीगरी; -दान-
 (पुं.) कलम रखने का आधान; -दंड-
 (वि.) लिखा हुआ, लिपिवद्ध; (मुहा.)
 -करना-टहनी छाँटना या गाड़ना;
 -खोचना-लिखा हुआ कोई अंग काटना;
 -घसीटना या चलाना-लिखना;
 -तोड़ना-लिखने में भावों की अभि-
 व्यक्त में परकाष्ठा प्रदर्शित करना ।
 कलमकीली—(हि. स्त्री) मल्लयुद्ध की
 एक युक्ति ।
 कलमख—(हि. पुं.) देखें 'कलमप' ।
 कलमना—(हि. क्रि. स.) कलम काटना,
 टुकड़े करना ।
 कलमस—(हि. पुं.) देखें 'कलमप' ।
 कलमलना—(हि.क्रि.अ.) संकुचित स्थान में
 अंग को इधर-उधर घुमाना, कुलबुलाना ।
 कलमलाना—(हि. क्रि. अ.) कुलबुलाना,
 कसमसाना ।
 कलमी—(हि.वि.पुं.) कलम काटकर लगाया
 हुआ (पेड़) ।
 कलमुहाँ—(हि.वि.) काले मुँहवाला, कलंकित ।
 कलरब—(सं.पुं.) कवूतर, कोयल, मीठी
 बाणी, कजना, मयुर ध्वनि ।
 कलरिन—(हि. स्त्री.) जोंक लगानेवाली
 स्त्री ।
 कलल—(नं. पुं.) गर्भ में लिपटी हुई
 सिल्ली, जरायु ।
 कलवरिया—(हि. स्त्री.) कलवार की
 बुकान, मशमाला ।
 कलवार—(हि. पुं.) एक जाति जो मद्य
 बनानी और बेचती है ।
 कलविह—(सं. पुं.) चटका पत्ती, मीसिया,
 चेंबर, कलक, पकास, गान्धक, कवूतर ।

कलश—(सं. पुं.) घड़ा, गगरा, घरों के
 धिखर पर का कंगरा, निरा, चाँदी,
 आठ सेर की तील ।
 कलसी—(सं. स्त्री.) छोटा घड़ा, गगरी ।
 कलस—(सं. पुं.) देग 'कल्प' ।
 कलसरा—(हि. स्त्री.) मल्लयुद्ध की एक
 युक्ति ।
 कलता—(हि. पुं.) पानी रखने का घड़ा,
 गगरा, मिषालय इत्यादि का कंगरा ।
 कलसिरी—(हि. स्त्री.) जगड़ा, स्त्री ।
 कलसी—(हि. स्त्री.) छोटी गगरी, छोटा
 कंगरा ।
 कलहंस—(सं. पुं.) राजहंस, जलकुमुद,
 श्रेष्ठ राजा, परमात्मा, ब्रह्म, ब्राह्मण,
 एक प्रकार का राग, एक वर्णयुक्त ।
 कलह—(सं. पुं.) विवाद, झगड़ा, पय,
 तलवार का मोल, घोखा, जिड़का
 छल, लड़ाई ।
 कलहकार, कलहकारक, कलहकारी-
 (सं. वि.) झगड़ा, विवादप्रिय ।
 कलहप्रिय—(सं.वि.) जिसको कलह बहुत
 अच्छा लगता हो, झगड़े से प्रसन्न
 रहनेवाला, झगड़ालू ।
 कलहप्रिया—(सं. स्त्री.) सारिका, मैना;
 (वि. स्त्री.) झगड़ालू ।
 कलहांतरिता—(सं. स्त्री.) वह नायिका
 जो नायक को क्रुद्ध करने के बाद में
 स्वयं पछताती है ।
 कलहारी—(सं.वि.स्त्री.) कलह करनेवाली,
 झगड़ालू, कर्कशा ।
 कलहास—(सं. पुं.) मयुर तथा अस्पृष्ट
 ध्वनियुक्त हँसी ।
 कलहिनी—(सं. स्त्री.) विवाद करनेवाली
 स्त्री, झगड़ालू स्त्री ।
 कलही—(सं. दि.) कलहयुक्ता, झगड़ालू ।
 कला—(सं. स्त्री.) गूढ़, व्याज, निन्द,
 कारीगरी, अंग, तीन काष्ठा का नगर,
 नाय, कपट, रागि के तीनवें अंग का
 नाचवाँ नाग, चन्द्रमा का मोलकाँ
 नाग-इन मोलकों का नाम अमर्ष,
 मानस, प्रक, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि,
 धिक्की, कपटिता, कान्ति, व्योम्बक,
 भी, प्रीति, रोगस, प्रकृति और प्रकृति-
 युक्त है; अधिभयस्य के दस भागों में
 में एक-इसके नाम प्रकृति, सृष्टि, सृष्टि,
 कपटिता, कपटिता, कपटिता, कपटिता,
 कपटिता, कपटिता और कपटिता है,
 दस का १८०० का भाग, विना, विना,
 अन्न सप्त, सप्त, सप्त, सप्त,
 सप्त का सप्तसप्त भाग, इसके सप्तसप्त

तपिनी, तापिनी, घूमा, मरीचि, ज्वालिनी, रचि, सुप्सना, भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी और क्षमा हैं; जिह्वा, छन्द की मात्रा, स्त्री का रज, छटा, शोभा, प्रमा, शौर्यादि गुण, विभूति, कौतुक, खेल, मात्रायुक्त एक लघु वर्ण, कपट, छल, करतव, युक्ति, ढंग, आयुर्वेद के अनुसार शरीर के सोलह भागों में से एक, इनके नाम—प्राण, श्रद्धा, व्योम, वायु, चल, पृथ्वी, मन, इन्द्रिय, अन्न, वीर्य, तप, कर्म, लोक और मान हैं; नटों का व्यायाम, कसरत, यन्त्र, एक वर्णवृत्त का नाम, तन्त्र के अनुसार चौसठ कलाओं के नाम यें हैं—नायन, वाद्य, नृत्य, चित्रकारी, तिलक लगाना, तंडुल कुसुमावली, पुष्पास्तरण, अंगराग, मणि, भूमिकर्म, शयनरचना, उदकवाद्य, पित्रकारी छोड़ना (उदकापात), चित्रयोग, माल्यग्रथन, बाल सवारना, चोटी गुंधना, नेपथ्य प्रयोग, कर्णपत्रमंग, गंधयुक्ति, अलंकारयोग, ऐन्द्रजाल, स्वरूप बनाना, हस्तलाघव, रसोई बनाना, पान आदि भोजन, सूई का काम, कसीदा, वीणा-वाद्य, प्रहेलिका, अन्त्याक्षरी, कूटक योग, पुस्तक-वाचन, नाट्यकला, समस्यापूर्ति, विनाई का काम, तक्षकर्म (मरम्मत करना), वडई-गिरी, राजगीर का काम, घातुपरीक्षा, घातुवाद, मणिराग ज्ञान, वृक्षायुर्वेद, सजीवद्युत, चिड़ीवाजी, अभ्यंग, संक्षप में बात, सांकेतिक अर्थ समझना, देशभाषाविज्ञान, पुष्पशकटिका, शुभाशुभ ज्ञान, यंत्रमंत्रिका, धारणमंत्रिका, मानसी संपाद्य, काव्यक्रिया, अभिधान-कोश, छन्दज्ञान, क्रियाकल्प, ठगी, वस्त्र-गोपन, द्यूतक्रीड़ा, चौपट पास का क्रीड़न, नम्रता, मल्लयुद्ध और व्यायाम है।

कलाई—(हिं. स्त्री.) हथेली का ऊपरी जोड़, मणिग्रन्थ, मृदा, एक प्रकार का व्यायाम, पूला, सूत की लच्छी, हाथी के कण्ठ में बाँधने का कलावा, करछा, अलान, सीकड़।

कलाकंद—(हिं. पुं.) एक प्रकार की बहुत न्यादिष्ट बरफ़ी।

कलाकार—(हिं. पुं.) किसी कला को जाननेवाला, चन्द्रमा।

कलाकृत्—(सं. पुं.) विप।

कलाकुशल—(सं. वि.) किसी कला में निपुण।

कलाकृति—(सं. स्त्री.) कलापूर्ण रचना।

कलाकेलि—(सं. पुं.) कन्दर्प, कामदेव।

कला-कौशल—(सं. पुं.) कलाकीचातुरी, शिल्प

कलात्मक—(हिं. वि.) कलापूर्ण।

कलाजंग—(हिं. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति।

कलाद (क)—(सं. पुं.) स्वर्णकार, सोनार।

कलादा—(हिं. पुं.) हाथी के मस्तक पर महावत के बैठने का स्थान।

कलाघर—(सं. पुं.) चन्द्र, चन्द्रमा, शिव, दण्डक वृत्त का एक भेद; (वि.) कलाओं का ज्ञाता।

कलानाथ, कलानिधि—(सं. पुं.) चन्द्रमा, एक गन्धर्व का नाम।

कलाप—(सं. पुं.) समूह, ढेर, मोर की पूँछ, मेखला, चन्द्रहार, अलंकार, तरकश, चन्द्रमा, शिव, पूला, मूट्ठा, कमर-बन्द, करधनी, कातन्त्र व्याकरण, गौ, व्यापार, वाण।

कलापक—(सं. पुं.) हाथी के गले का रस्सा, समूह, झण्ड, चार श्लोकों का समूह।

कलापट्टी—(हिं. स्त्री.) नाव की पंदी के छेद में सन वगैरह भरना।

कलापिनी—(सं. स्त्री.) रात्रि, मयूरी, मोरनी, नागरमोथा।

कलापी—(सं. पुं.) पीपल का वृक्ष, मोर, कोयल, मोर के पर फलाकर नावने का समय; (वि.) तरकश बाँधनेवाला, समूह में रहनेवाला।

कलापूर—(सं. पुं.) एक प्रकार का वाजा।

कलावत्—(हिं. पुं.) रेवाम पर लपेटा हुआ सोने-चाँदी का तार जो घाग के समान पतला होता है, इसके बेल-बूटे साड़ियों पर बनाये जाते हैं।

कलावाज—(हिं. वि.) नट-क्रिया करनेवाला।

कलावाजी—(हिं. स्त्री.) उछलने-कूदने की विद्या।

कलामृत—(सं. पुं.) चन्द्र, चन्द्रमा।

कलामौचा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बंगाल में उपजनेवाला धान।

कलार—(हिं. पुं.) कलवार।

कलाल—(हिं. पुं.) मद्य बनानेवाला, कलवारा।

कलालाप—(सं. पुं.) भ्रमर, मीरा।

कलायंत—(हिं. वि.) देखें 'कलावान्'।

कलावती—(सं. स्त्री.) एक परी का नाम, गंगा; (वि. स्त्री.) शोभायुक्त।

कलावा—(हिं. पुं.) टेकुवे में लपेटा हुआ मूत का लच्छा, विवाहादि शुभ अवसर पर पीला रंगा हुआ सूत का डोरा, हाथी की गरदन।

कलावान—(सं. पुं.) नट, चन्द्रमा; (वि.) कला जाननेवाला।

कलासी—(हिं. स्त्री.) पत्थर या लकड़ी के जोड़ में की रेखा।

कलिंग—(सं. पुं.) इन्द्रजव, भूरे रंग का एक पक्षी, कुटज वृक्ष, सिरिस का पेड़, कुरैया, अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का पेड़, भारतवर्ष का एक जनपद (उड़ीसा)।

कलिंगक—(सं. पुं.) इन्द्रजव, कुटज का पेड़, तरवूज, पाकर का वृक्ष, पपीहा, वहेड़े का वृक्ष।

कलिंगड़ा—(हिं. पुं.) एक राग जो रात के चौथे प्रहर में गाया जाता है।

कालिद—(सं. पुं.) सूर्य, वहेड़े का पेड़, एक पर्वत जिसमें से यमुना नदी निकली है।

कालिदक—(सं. पुं.) कुम्हड़ा, तरवूज।

कालिदकन्या, कालिदजा, कालिदनदिनी—(सं. स्त्री.) यमुना।

कालिदा—(सं. पुं.) तरवूज।

कलि—(सं. पुं.) वहेड़े का वृक्ष, शूरवीर, विवाद, लड़ाई-झगड़ा, चौथा युग जिसमें अनीति, पाप इत्यादि की अधिकता रहती है, क्लेश, दुःख, युद्ध, लड़ाई, छन्द में रगण का एक भेद।

कलिका—(सं. स्त्री.) विना खिला हुआ फूल, कली, गुंजा, घुंघची, वीन या सितार की जड़ का भाग, एक प्रकार का प्राचीन काल का वाजा, छन्द विशेष।

कलिकान—(हिं. वि.) व्यग्र।

कलिकाल—(सं. पुं.) कलियुग।

कलित—(सं. वि.) विदित, प्राप्त, गिना हुआ, अलग किया हुआ, अर्जित, आश्रित, समझा हुआ, कहा हुआ, बँधा हुआ, गृहीत, पकड़ा हुआ, सुन्दर, सजाया हुआ।

कलिमल—(सं. पुं.) पाप।

कलियाना—(हिं. क्रि. श्र.) कली निकलना, अंकुरित होना, पक्षियों के नये पर या पंख निकलना।

कलियारी—(हिं. स्त्री.) एक पीघा जिसकी जड़ विपेली होती है।

कलियुग—(सं. पुं.) चौथा युग, वर्तमान युग।

कलियुगाद्या—(सं. स्त्री.) कलियुग की पहली तिथि, भाघी पूर्णिमा जिस दिन कलियुग का आरम्भ हुआ था।

कलियुगी—(सं. वि.) कलियुग में उत्पन्न होनेवाला, पापी, दुराचारी।

कलिल—(सं. वि.) मिश्रित, मिला हुआ, घना, भरा हुआ।

कलिदग्ग्यं—(सं. वि.) कलियुग में न करने योग्य (कर्म)।

कलिहारी—(हिं. स्त्री.) देखें 'कलियारी'।

कलींदा—(हिं. पुं.) तरवूज।

कली-(सं. स्त्री.) विना खिला हुआ फूल, कलिका, मुँह बंधा हुआ फूल पत्नी का नया पर, अक्षतयोनि कन्या; (हि. स्त्री.) हुक्के के नीचे का भाग, अंगरखे, कुखे इत्यादि में लगाने का त्रिकोना कटा हुआ कपड़ा, वैष्णवों का एक तिलक, पत्थर या सीप का फंका हुआ छोटा टुकड़ा; (मुहा.) दिल की कली फूटना-या खिलना-अति प्रसन्न होना।

कलीसिया-(हि. स्त्री.) ईसाइयों या यहूदियों की एक धार्मिक मण्डली।

कलुआवीर-(हि. पुं.) जादू-टोने के एक प्रधान देवता।

कलुख-(हि. पुं.) देखें 'कलुप'।

कलुखाई-(हि. स्त्री.) देखें 'कलुपता'।

कलुपी-(हि. वि.) देखें 'कलुपी'।

कलुप-(सं. पुं.) मलिनता, मैलापन, पाप, क्रीव; (वि.) मलिन, निन्दित, कुत्सित, दुःखित, पापी, क्षुब्ध, घबड़ाया हुआ, असमर्थ।

कलुपता, कलुपाई-(सं., हि. स्त्री.) मलिनता, अंधेरा, घबड़ाहट, पाप, दोष।

कलुपित-(सं. वि.) मलिन, मैला, दूषित, पापयुक्त, असमर्थ, दुःखित, क्षुब्ध, घबड़ाया हुआ, कपाय, कसला।

कलुपी-(सं. वि.) मलिन, पापी; (वि. स्त्री.) पापिनी, मैली।

कलुटा-(हि. वि.) बहुत काले रंग का।

कलुना-(हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा धान।

कलुला-(हि. पुं.) कुल्ली।

कलुड-(हि. पुं.) कलुवा, विवाह के समय वर का भोजन।

कलुजई-(हि. पुं.) एक प्रकार का बगनी रंग।

कलुजा-(हि. पुं.) छाती के भीतर का भाग, यक्षस्थल, छाती; (मुहा.) उछलना-हर्ष, आनंद आदि के कारण भावावेश होना; -फटना-दिल को चींट पहुँचना; -फांपना-भयभीत होना; -काटना या निकालना-दूर रख पहुँसाना; -गटना-अत्यधिक संताप देना; -छिदना या चियना-गड़ी बात से दिल को दुःख होना; -जलना-ग्रहण हुआ होना, बद-हामी के कारण कलेजे में जलन होना; -जलना-अत्यन्त कष्ट देना; -टुक-टुक होना-हृदय विदीर्ण होना; -ठंडा करना-निन्दित करना; -घाम पर रह जाना-अज्ञानता को छिना आहू मिलने ना देना; -घर पर करना या घड़-रना-गल में हस्तक्षेप का अत्यधिक

तीव्र होना; -धक से हो जाना-एका-एक मय या विस्मय से सुन्न हो जाना; -निकालकर रखना-अपनी अत्यन्त प्रिय वस्तु को देना; -पक जाना-किसी के उत्पीड़न से ऊब जाना; -पत्थर का करना-जी कड़ा करना; -फटना-किसी का दुःख देखकर घबड़ा जाना; -बाँतों उछलना-आनंदित भावावेश में विह्वल होना; -मुँह को धाना-कष्ट आदि से बहुत व्याकुल होना; फलेजे पर छुरी चल जाना-हृदय पर गहरा आघात होना; कलेजे पर साँप लोटना-किसी बात या व्यवहार पर बहुत संताप होना; पूर्व घटना को स्मरण करके शोकाकुल होना; कलेजे पर हाथ फेरना या रखना-किसी बात को औचित्य के निदर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा पर आधारीत करना; कलेजे में आग लगना-द्वेष होना, शोक होना; कलेजे में डालना-प्यार से पास में रखना; कलेजे में तीर लगना-दिल में गहरी चींट लगना; कलेजे में पैठना-भेद लेने के लिए मेल बढ़ाना; कलेजे से लगना-आलिंगन करना; कलेजे से लगाना-छाती से लगाना।

कलेजी-(हि. स्त्री.) भेड़-बकरे के कलेजे का मांस।

कलेयर-(सं. पुं.) शरीर, देह, चोला; (मुहा.) बदलना-एक शरीर या रूप छोड़कर दूसरा ग्रहण करना।

कलेवा-(हि. पुं.) प्रातराग, प्रातःकाल का लघु भोजन, जलपान, विवाह के समय वर को ससुराल में भोजन कराना; (क्रि. प्र.)-करना-निगल जाना।

कलेवा-(हि. पुं.) देखें 'कलेवा'।

कलैया-(हि. स्त्री.) नीचे तिर और ऊपर पर करके उलट जाने की क्रिया।

कलोर-(हि. वि.) जवान बछिया जो ब्वाई या गामिन न हुई हो।

कलोल-(हि. पुं.) केलि, श्रौटा, आगोश-प्रमोद।

कलोलना (हि. क्रि. अ.) कलोल करना, श्रौटा करना।

कलोजी-(हि. स्त्री.) काला जीरा, मंगरेला, एक प्रकार की तरकारी जो परवल, करेला इत्यादि के फल की फाट्टर समान समानता रखकर बीमार को खाते हैं।

कलौस-(हि. वि.) कालागम विभे रूप; (पुं.) कालागम, काला।

कल्क-(सं. पुं.) पत्थर पर पीसी हुई वस्तु, चूर्ण, बूकनी, पीठी, गीली या निगाई हुई औषधियों को पीसकर बनाई हुई चटनी, घृत या तैल का बना हुआ भाग, अवलेह, दमन, घमंट, बहेड़े का बूध, किट्टे, मेल, कान का मेल, लोहवान, हाथीदांत, पापी।

कल्क-(सं. पुं.) विष्णु का दमवाँ अवतार; -पुराण-(पुं.) अठारह पुराणों के अतिरिक्त इस नाम का पुराण।

कल्की-(सं. वि.) पापों से युक्त; (पुं.) देखें 'कल्कि'।

कल्प-(सं. पुं.) विद्या, विधि, रीति, चौदह मन्वन्तर का काठ अर्थात् ४३२००००००० वर्ष, प्रलय, कल्पवृक्ष, विकल्प, वेद के पदंग के अन्तर्गत वह शास्त्र जिनमें यज्ञादि करने का विधान है, वाञ्छा, पक्ष, अग्निप्राय, प्रलय, विनाश, प्रकरण, आयुर्वेद के अनुसार रोगनिवृत्ति का एक प्रधान उपाय।

कल्पक-(सं. पुं.) नापित, कनूर, प्रय-कर्ता; (वि.) बनायेवाला, रचनेवाला।

कल्पकतर-(सं. पुं.) देखें 'कल्पतर'।

कल्पकार-(सं. पुं.) नापित; (वि.) वेग सजानेवाला, आरोपक, लगानेवाला।

कल्पक्षय-(सं. पुं.) प्रलय, संसार का नाम।

कल्पगा-(सं. स्त्री.) गंगा नदी।

कल्पतर, कल्पवृक्ष-(सं. पुं.) स्वर्ग का वह वृक्ष जो मोगने से मकल पदार्थ देता है, मुहुमांगी वस्तु देनेवाला, मुषारी का बूध, बंधक का एक रस विषेप।

कल्पन-(सं. पुं.) रचना, बनावट, विद्या।

कल्पना-(सं. स्त्री.) अनुमान, अटकल, रचना, बनावट, सजावट, अर्थात्, प्रमाण, अक्षररोप, नये विषय का उद्-भादन, काव्य, उपन्यास, चित्र आदि की मन में रचना; -चित्र-(पुं.) कल्पना में नीचा हुआ चित्र; -प्रकृत-(वि.) कल्पना में उरजा हुआ; -प्रकृत-(स्त्री.) मन की वह प्रकृति जो अनुमान-सदर होती; -कृति-(स्त्री.) कल्पना की रचना।

कल्पनी-(सं. स्त्री.) कल्पनी, कृति।

कल्पनीय-(सं. वि.) कल्पना करने योग्य, अटकल के योग्य।

कल्पना-(सं. स्त्री.) कल्पना।

कल्पनास-(सं. पुं.) शरद ऋतु में शरद-कष्ट पर मकल से समीप होने से शरद-कष्ट

कल्पविटप, कल्पवृक्ष-(सं. पुं.) कल्प-वृक्षों में से एक वृक्ष जो शरद ऋतु में जिनका नाम कल्पवृक्ष है।

कल्पसूत्र-(सं. पुं.) वैदिक कर्मों के अनुष्ठान बतलानेवाला ग्रन्थ ।
 कल्पांत-(सं. पुं.) प्रलय, ब्रह्मा के दिन का अन्त ।
 कल्पांतर-(सं.पुं.) संसार की दूसरी उत्पत्ति ।
 कल्पातीत-(सं.पुं.) कल्प काल की अपेक्षा अधिक दिनों तक रहनेवाला देवता ।
 कल्पित-(सं. वि.) रचित, कल्पना किया हुआ, माना हुआ, सज्जित, सजा हुआ, लगाया हुआ, ठीक किया हुआ, दिया हुआ, बनावटी, कृत्रिम ।
 कल्पितोपमा-(सं.स्त्री.) ऐसी उपमा जिसमें प्रकृत उपमा न मिलने से कल्पना की आवश्यकता होती है ।
 कल्पमय-(सं.पुं.) मलिनता, मैलापन, पाप, एक नरक विशेष, पीव, मवाद; (वि.) पापी, दोषी, गंदा ।
 कल्पमय-(सं. वि.) काला, चितकवरा ।
 कल्पाम्पी-(सं.स्त्री.) कालिन्दी, यमुना नदी ।
 कल्प्य-(सं. पुं.) प्रातःकाल, सवेरा, मधु, सुरा, शुभ समाचार, बधाई; (वि.) चतुर, दक्ष, नीरोग, प्रस्तुत ।
 कल्प्यपाल-(सं.पुं.) कलवार, मद्य बनानेवाला ।
 कल्या-(सं. स्त्री.) मद्य, कल्याण-वाक्य ।
 कल्याण-(सं. पुं.) शुभ, मंगल, भलाई, सोना, एक रोग विशेष; (वि.) भला; -कर-(वि.) भलाई करनेवाला; -कारक-(वि.) कल्याणप्रद ।
 कल्याणी-(सं. वि. स्त्री.) कल्याण करनेवाली, सुन्दरी; (स्त्री.) गाय, प्रयाग की एक प्रसिद्ध देवी ।
 कल्याण-(हि. पुं.) देखें 'कल्याण' ।
 कल्लर-(हि. पुं.) काली मिट्टी, रेह, नोना, ऊसर मृत्ति ।
 कल्ला-(हि. पुं.) अंकुर, अँबुआ, कोंपल हरी टहनी, कपाल के भीतर का बंग, जवड़ा, जवड़े के नीचे गले तक का भाग, विवाद, झगड़ा; (मूहा.) -इवाना-बोलने से रकना; -फुलाना-मुँह फुलाना; -बजाना-भगड़ना; -मारना-गाल बजाना ।
 कल्लातोड़-(हि. वि.) प्रचल, बराबरी करनेवाला ।
 कल्लाना-(हि. क्रि. अ.) चमड़े के ऊपरी भाग में जलन होना ।
 कल्लू-(हि. वि.) काले रंगवाला ।
 कल्लोल-(सं. पुं.) बड़ी लहर, तरंग, हँस, आनन्द ।
 कल्लोलिन्दी-(सं. वि.) तरंगयुक्त ।
 कल्लोलिनी-(सं. स्त्री.) नदी ।

कल्लोलिनी-वल्लभ-(सं. पुं.) समुद्र ।
 कल्लह-(हि. पुं, अव्य.) देखें 'कल' ।
 कल्लहार-(हि. पुं.) एक प्रकार का फूल ।
 कल्लहारना-(हि. क्रि. अ., स.) थोड़े घी या तेल में भूना, दुख से कराहना, चिल्लाना, पीड़ा का शब्द करना ।
 कवच-(सं. पुं.) उरश्छद, आवरण, छिलका, सन्नाह, मूर्जपत्र, नगाड़ा, पटह, दारचीनी, मंत्र द्वारा शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों की रक्षा, यंत्र ।
 कवचघर-(सं. वि.) कवच धारण करनेवाला ।
 कवचपत्र-(सं. पुं.) मूर्जपत्र, भोजपत्र ।
 कवटी-(सं. स्त्री.) कपाट, केवाड़ी ।
 कवत-(हि. सव.) देखें 'कौत' ।
 कवर-(हि.पुं.) घास, कौर; (सं.पुं.) केश-पाश; (अं.पुं.) आच्छादन, ढपना, पुटक ।
 कवरना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'कौरना' ।
 कवरा, कवरी-(हि. स्त्री.) चोटी, जूड़ा ।
 कवर्ग-(सं. पुं.) ककारादि पाँच वर्णों का समूह; क, ख, ग, घ, ङ अक्षरों का नाम ।
 कवर्गीय-(सं. वि.) 'क' वर्ग के अक्षरों से निकला हुआ ।
 कवल-(हि. पुं.) घास, कौर, वह मात्रा जो मुख में सहज में चली जाती है, कुल्ली, कोण, किनारा, प्रतिज्ञा, एक कुजाति का घोड़ा ।
 कवलित, कवलीकृत-(सं. वि.) खाया हुआ, निगला हुआ ।
 कवाट-(सं. पुं.) कपाट, किवाड़ा ।
 कवाम-(अ. पुं.) पकाकर मधु के समान बनाया हुआ रस, किमाम, चाशनी ।
 कवायद-(अ. पुं.) नियमावली, कार्य-विधि; (स्त्री.) सेना या सिपाहियों के दल का कसरत करना ।
 कवि-(सं. पुं.) कविता, गान इत्यादि का रचयिता, छन्द बनानेवाला पण्डित, शूक्र, सूर्य, ब्रह्मा, ऋषि, वैद्य ।
 कविक-(सं. पुं.) कवि, लगाम ।
 कविका-(सं. स्त्री.) लगाम, केवड़े का फूल ।
 कविता-(सं. स्त्री.) पञ्चमय वर्णन, काव्य ।
 कविताई-(हि. स्त्री.) कविता, कवित्व ।
 कवित्त-(हि. पुं.) दण्डक के अन्तर्गत चार पदों का काव्य जिसके प्रत्येक चरण में इकतीस-इकतीस अक्षर होते हैं; इसको घनाक्षरी भी कहते हैं ।
 कवित्व-(सं. पुं.) कविता रचने की शक्ति, ज्ञान, काव्य का गुण ।
 कविनासा-(हि. स्त्री.) देखें 'कर्मनासा' ।
 कविपुत्र-(सं. पुं.) गुरुचार्य, भार्गव ऋषि ।

कविराज-(सं. पुं.) श्रेष्ठ कवि, बंग-देशीय वैद्य की उपाधि ।
 कविराजी-(हि. स्त्री.) बंगदेशीय वैद्य चिकित्सा ।
 कविराय-(हि. पुं.) देखें 'कविराज', माट, श्रेष्ठ कवि ।
 कविलास-(हि. पुं.) कैलास, स्वर्ग ।
 कविवर-(सं. पुं.) श्रेष्ठ कवि ।
 कवेरा-(हि. पुं.) ग्रामीण, देहाती ।
 कवेला-(हि. पुं.) चक्करदार कील, कौवे का वच्चा ।
 कवोष्ण-(सं.वि.) थोड़ा गरम, गुनगुना ।
 कव्य-(सं. पुं.) जो अन्न पितरों के निमित्त दिया जावे; -वाह-(पुं.) अग्नि, आग ।
 कश, कशा-(सं. पुं., स्त्री.) चाबुक, कोड़ा ।
 कशाघात-(सं. पुं.) चाबुक की मार ।
 कशिक-(सं. पुं.) नकुल, नेवला ।
 कशिका-(सं. स्त्री.) चमड़े का चाबुक ।
 कशीदा-(फा. पुं.) सुई-धागे से कपड़े पर बनाया हुआ वेल-बूटा ।
 कशेर, कशेरुक, कशेरुका-(सं. पुं.) पीठ की हड्डी, रीढ़, एक प्रकार की घास की जड़ जिसका ठोस भाग खाया जाता है ।
 कश्चित्-(सं. अव्य.) कोई, एक न एक ।
 कश्मल-(सं. पुं.) मूर्छा रोग; (वि.) मलिन, पापी ।
 कश्मीर-(सं. पुं.) काश्मीर देश जो पंजाब के उत्तर में पहाड़ों से घिरा हुआ है; -ज-(पुं.) केसर ।
 कश्मीरी-(हि. वि.) कश्मीर देश सम्बन्धी, कश्मीर में उत्पन्न ।
 कश्यप-(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, एक प्रजापति, कच्छप, कछुवा, एक प्रकार का हिरन, सप्तपिण्डलांतर्गत एक तारा ।
 कप-(सं. पुं.) कसीटी, सान, घिसाव, जाँच, परीक्षा ।
 कपण-(सं. पुं.) कसीटी, घर्षण, रगड़ ।
 कपा-(सं. स्त्री.) कशा, चाबुक ।
 कपाय-(सं. पुं.) कसलापन, कल्क, काढ़ा, निर्यास, उबटन, आसवित, लाल रंग, कालियुग, निर्विकल्प रामाधि का एक विघ्न; (वि.) रंगा हुआ, कसैला, खुशबूदार, अनुभवहीन, रंगदार; (पुं.) जैनशास्त्र में क्रोध, मान, माया तथा लोभ कपाय कहलते हैं ।
 कपायता-(सं. स्त्री.) कसैलापन ।
 कपायकल-(सं. पुं.) पुंगीफल, मुपारी ।
 कपायित-(सं. वि.) लाल रंगा हुआ ।
 कपित-(सं. वि.) परीक्षित, चोट खाया हुआ ।

कष्ट-(सं. पूं.) पीड़ा, व्यथा, क्लेश, दुःख, संकट, आपत्ति; (वि.) दुःखकर; -कर-(वि.)दुःखजनक, पीड़ा देनेवाला; -कल्पना-(स्त्री.)कठोर अनुमान जिसके स्थिर करने में बड़ा कष्ट होता है; -कारक-(वि.) दुःखजनक, क्लेश देनेवाला; -जीव-(वि.)कष्ट से जीविका निर्वाह करनेवाला; -तर-(वि.)अधिक कष्ट देनेवाला; -लभ्य-(वि.) कठिनता से प्राप्त होनेवाला; -सह-(वि.) कष्ट या दुःख सहन करनेवाला; -साध्य-(वि.) कष्ट से आरोग्य होनेवाला, कठिनाई से होनेवाला ।
 कष्टार्जित-(सं.वि.)कष्ट से कमाया हुआ ।
 कष्टार्तव-(सं. पूं.) स्त्री को रजोधर्म में अत्यधिक पीड़ा होना ।
 कष्टी-(सं. स्त्री.) प्रसव का दुःख उठाने वाली स्त्री ।
 कस-(सं.हि.पुं.) कसौटी, जांच, परीक्षा, शक्ति, वश, रोक, अवरोध, सार, निचोड़, तलवार की लच्छक, बांधने की रस्ती, गतलयुद्ध की युक्ति, कसाव, तत्त्व; (हि. अव्य.) कस प्रकार से, कैसे; (मुहा.) -में रखना या लाना-ब्रज में करना ।
 कसक-(हि. स्त्री.) पीड़ा जो आघात पड़ने पर हलकी-सी उठती है, पुराना वैर, सहानुभूति, अमिलापा; (मुहा.) -निकालना-पुरानी शत्रुता का बदला लेना ।
 कसकना-(हि.क्रि.अ.) पीड़ा होना, दुखना, रह-रहकर पीड़ा उठना, बुरा लगना ।
 कसकुट-(हि. पूं.) एक मिथ्य धातु जो तांबा और जस्ता बराबर भागों में मिलाकर बनती है, कांसा ।
 कसकर-(हि. पूं.) एक जाति के लोग जो प्रायः मुगलमान होते हैं ।
 कसदंड-(हि. पूं.) कांसि के टूटे-फूटे पानों का अंग ।
 कसन-(सं. पूं.) काम, रांगी, वेदना, पीड़ा; (हि. स्त्री.) नयन, कनाई, कान्ने की रस्ती, कान्ने की विधि ।
 कसना-(हि.क्रि.अ.) बांधने मग्य रस्ती रस्ती को कसकर बांधना, नयना, जलना, बंधना, बंधन पैठाना, धिक्काने पैठाना, मोटे-हाथी को मजिजत करना, बंधाना, सेवार होना, पिगना, रगडना, कसकना, परीक्षा करना, कष्ट देना, भर आना, मोने की परीक्षा करने के लिये बरतने का विधान ।
 कसाव-(अ. सं.) कस के लिये हुए कस; कसाव कस-(पुं.) कस का भाव; कसा-कसाया-

प्रस्थान करने के लिये उद्यत ।
 कसनि-(हि. स्त्री.) बंधन, बंधाई ।
 कसनी-(हि. स्त्री.) रस्ती, चोली, बैठन, खोल, कसौटी, परीक्षा, जांच, परख, हथौड़ा, कसौलानन, काटा ।
 कसवल-(हि.पुं.) पराक्रम, साहस, हिम्मत ।
 कसवाती-(हि.वि.)कसने का रहनेवाला ।
 कसविन, कसवी-(हि. स्त्री.) बेल्या, रडी, व्यभिचारिणी स्त्री, पतुरिया ।
 कसम-(अ. स्त्री.) अपय, सौगंध, अपय-पूर्वक की हुई प्रतिज्ञा; (मुहा.)-खाना-प्रतीक्षा करना; -खाने को-नाममात्र को ।
 कसमसाना-(हि.क्रि.अ.) हिलना, टोलना, उसकना, ज्वना, घबड़ा जाना, हिचकना, बेचैन होना, उकताना, आगापीछा करना ।
 कसमसाहट, कसमती-(हि. स्त्री.) व्यग्रता, घबड़ाहट ।
 कसर-(अ. स्त्री.) कमी, न्यूनता, घाटा; (मुहा.)-करना या रखना-किसी बात के करने में कोताही रखना; -साना-घाटा सहना; -निकलना-बदला मिलना; -निकालना-वैर फेरना, बदला लेना ।
 कसरत-(अ. स्त्री.) व्यायाम, कवायद ।
 कसरती-(हि. वि.) परिश्रमी, व्यायाम करनेवाला ।
 कसरवानी-(हि. पु.) बिहार के बनियों की एक शाखा ।
 कसरहट्टा-(हि. पूं.) वह हाट जहाँ कसेरे बरतन बनाकर बेचते हैं ।
 कसली-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छोटा फावड़ा ।
 कसवाना-(हि. क्रि. म.) कसने का काम दूसरों से कराना ।
 कसवार-(हि. पूं.) एक प्रकार की मोटी जाति की ईंट ।
 कसहट्ट-(हि.पुं.) कानि के बरतनों के टुकड़े ।
 कसाई-(हि. पूं.) बकिया, घागह; (वि.) निष्पुंड, निर्दण, क्रूर-दण्ड ।
 कसागा-(हि. वि. अ., म) किसी पदार्थ में कसलापन आ जाना, कसला जान पड़ना, कसवाना, भाववाना ।
 कससर-(हि. पूं.) पी में श्या हुआ तथा चीनी मिला हुआ पाट ।
 कसाला-(हि. पूं.) रोग, कष्ट, परिश्रम ।
 कसाव-(हि. पूं.) कसवान, भावार्थ, निष्पार ।
 कसावट-(हि. स्त्री.) भावार्थ, निष्पार ।
 कसिया-(हि. पूं.) कसिया किले का एक कसब जो यह के महाकिले का एक भेद है ।
 कसियाना-(हि. वि. अ.) कसव होना,

कसाव वा जाना ।
 कसौ-(हि. स्त्री.) नमि नापने की उन्चाम डेच की रस्ती ।
 कसौटना-(हि. क्रि. सं.) कसना ।
 कसौदा-(हि. पूं.) देते 'कसौदा' ।
 कसौस-(हि. पूं.) लोहे का एक प्रकार का मुरचा ।
 कसेरहट्टा-(हि. पूं.) कसेरों का हाट ।
 कसेरा-(हि. पूं.) कानि, फल रस्तीदि के पात्र बनाने तथा बेचनेवाला बनिया ।
 कसेरु-(हि. पूं.) एक प्रकार के मोथे की गेंडीली जड़ जो खाने में मीठी होती है ।
 कसैया-(हि. वि.) कसकर बांधनेवाला, परीक्षक, जांचने या परखनेवाला, गोघातक ।
 कसैला-(हि. वि.) कपाय स्वाद का, कसानेवाला, जीम को ऐंठनेवाला; -पन-(पुं.) कपाय रस या स्वाद ।
 कसैली-(हि. स्त्री.) पूंगीफल, गुफारी ।
 कसेरा-(हि.पुं.) कसेरा, मिट्टी का कटोना ।
 कसौदा-(हि. पूं.) हूरफा रेवड़ी का फल ।
 कसौटी-(हि. स्त्री.) एक प्रकारका काष्ठ पत्थर जिन पर सोना रगड़कर इनके रंग से उसकी परीक्षा की जाती है, परीक्षा जांच, परख ।
 कस्तरी-(हि. स्त्री.) दूध पकाकर रखने का मिट्टी का पात्र ।
 कस्तूरी-(हि. पूं.) कस्तूरी मृग, सोमरी के ममान एक पशु, जिन की पं में, से मीठी निकलता है, एक पुष्टिदायक दवा ।
 कस्तूरिका-(सं. स्त्री.) कस्तूरी ।
 कस्तूरिया-(हि. पूं.) कस्तूरी मृग, कस्तूरी; (वि.) कस्तूरी मिश्रित, कस्तूरी के रंगवा ।
 कस्तूरी-(सं. स्त्री.) मुगनाभि से निकलनेवाला एक सुगन्धित द्रव्य; -कसु-(पुं.) एक प्रकार का किपिन दिगमो नाभि से निकलनेवाला द्रव्य ।
 कसमान्-(सं. अन्व.) जिन का अर्थ है, कसे ।
 कसना-(हि. पूं.) एक प्रकार की कसव ।
 कसनी-(हि. स्त्री.) सागरी या पीछा पाकवा ।
 कसे-(हि. प्रत्य.) कसे; (अन्व.) कसे ।
 कसेरु-(अ. पूं.) कसिया-काष्ठ के कसे, लोखे के कसे ।
 कसिया-(हि. स्त्री.) कसिय में मगाने की मिट्टी का पात्र ।
 कसिअ-(हि. वि.) कसिय का ।
 कसक-(सं. स्त्री) कसक का ।
 कसन-(हि. पूं.) कसन, कसना ।
 कसव-(हि. पूं.) कसव, कसवान, कसवाना ।

कहना—(हि.क्रि.स.) बोलना, बताना, सम-
झाना, वर्णन करना, उच्चारण करना,
मंत्राद मुनाना, सिखाना, पढ़ाना, अयोग्य
वात बोलना, बहकाना, बोखा देना, कविता
यगाना, सूचना देना, नाम रखना; (पुं.)
अनुरोध, आजा, कथन; (मुहा.) कह-
बदकर—वृद्धतापूर्वक; —मुनना—वार्तालाप
करना; कहने को—केवल नाम मात्र से;
कहने की बात—सूठी बात; (किसी के)
कहने में आना—किसी के बहकाने में
आना; (किसी के) कहने में होना—
किसी के वचन या आज्ञाकारिता में होना।
कहनावत—(हि. स्त्री.) कहावत, कथन,
कियदस्ती, कहासुनी।
कहनि—(हि. स्त्री.) देखें 'कहन'।
कहनूत—(हि. स्त्री.) मसला, कहावत, वृष्टान्त।
कहरना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'कराहना'।
कहरवा—(हि. पुं.) पाँच मात्राओं का एक
ताल, एक गीत विशेष, दादरा, एक प्रकार
का नाच, पानी भरनेवाला कहार।
कहरी—(अ. वि.) आपत्ति लानेवाला।
कहल—(हि. पुं.) गरमी, ऊमस, ताप,
ज्वर, कष्ट।
कहलना—(हि. क्रि. अ.) गरमी से व्याकुल
होना, घबड़ाना।
कहलवाना—(हि. क्रि. स.) कहने का काम
दूसरे से करवाना, कहलाना।
कहलाना—(हि. क्रि. स.) कहने का काम
दूसरे से कराना, पुकारा जाना, कहा
जाना, संदेश भेजना।
कहवाँ—(हि. अव्य.) कहाँ, किस स्थान पर।
कहवा—(अ. पुं.) एक पेड़ का बीज जो
चाय की तरह पेय होता है।
कहवाना—(हि. क्रि. स.) कहलाना, कहाना।
कहवैया—(हि. वि.) कहनेवाला।
कहाँ—(हि. अव्य.) किस जगह, किस स्थान
पर; (पुं.) पुरत के उत्पन्न शिशु की चिल्ला-
हट; (मुहा.) —का—बड़ा विकट,
व्यर्थ का; —का—कहाँ—कहाँ से कहाँ;
—की बात—कभी अनहोनी बात।
कहाँ—(हि. पुं.) कथन, वातचीत; (अव्य.)
कैसे, किस प्रकार से; (सत्रे.) क्या,
कौन; —कहीं—(स्त्री.) तक़रार; —नुनी—
(स्त्री.) कहा-कही।
कहाना—(हि. क्रि. स.) कहलाना, कहा जाना।
कहानी—(हि. स्त्री.) कथा, मिथ्या वचन,
सूठी बात।
कहाल—(हि. पुं.) एक जाति जो पानी
भरने और पोशने या पालकी डोने का
काम करती है।

कहारा—(हि. पुं.) टोकरा, दौरा।
कहावत—(हि. स्त्री.) लोकोक्ति, कथित
विषय, कही हुई बात।
कहिया—(हि. अव्य.) किस समय, कब;
(पुं.) रोग से जोड़ने का एक अस्त्र।
कहीं—(हि. अव्य.) किसी अनिश्चित
स्थान में, प्रश्न रूप में 'तहीं' अथ में भी
प्रयुक्त होता है, यदि, कदाचित्, बहुत,
बहुत अधिक, कहीं और, किसी दूसरे स्थान
पर; (मुहा.) —कहीं—कुछ स्थानों में;
—का—किसी जगह का; —का न रहना—
किसी काम का न होना; —न कहीं—
किसी न किसी स्थान पर।
कहूँ—(हि. अव्य.) कहीं।
कहूँ—(हि. अव्य.) कहीं।
कड़ियाँ—(हि. वि.) धूर्त, वंचक।
कंकड़ा—(हि. पुं.) कपास का बीज, विनौला।
कंकर—(हि. पुं.) कंकड़।
कंकारी—(हि. स्त्री.) छोटा कंकड़; (मुहा.)
—चुनना—शोक या दुःख से चित्त किसी
काम में न लगना।
कंक्षनीय—(सं. वि.) अभिलाषा करने योग्य।
कंक्षा—(सं. स्त्री.) अभिलाषा, इच्छा।
कंक्षी—(सं. वि.) आकांक्षा करनेवाला,
चाहनेवाला।
कंख—(हि. स्त्री.) बाहुमूल के नीचे
का गड्ढा, बगल।
कंखना—(हि. क्रि. अ.) पीड़ा की अवस्था में
दुःखसूचक उच्चारण करना, कराहना,
मल या मूत्र निकालने के लिये उदर की
वायु को देवाना।
कंखासोती—(हि. स्त्री.) डुपट्टे को वायें
कंधे पर रखकर पीठ पर से लपेटते हुए
दाहिनी बगल के नीचे पहुँचाकर रखना,
उत्तरीय।
कांगड़ा—(हि. पुं.) पंजाब प्रान्त के एक
जिले का नाम।
कांगड़ी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की
छोटी अंगीठी जिसको जड़े के दिनों में
काश्मीरवासी अपनी गरदन में से
लटकाने रहते हैं।
कांगही—(हि. स्त्री.) कंधी।
कांगुरा—(हि. पुं.) कांगुरा।
कांच—(हि. स्त्री.) घोती का छोर जो
कमर के पीछे खोसा जाता है, गुदा का
भीतरी भाग जो कभी-कभी जोर से
काँखने पर बाहर निकल आता है;
(पुं.) शीजा; (मुहा.) —निकलना—
एक रोग जिसमें मल-त्याग के समय
काँच बाहर निकल आती है।

कांचन—(सं. पुं.) सोना, दीप्ति, प्रसा,
घतूरा, चंपा, पद्मकेसर; —गिरि—
(पुं.) सुमेरु पर्वत; —प्रभ—(वि.) सोने
के समान कान्तिमय।
कांचरी—(हि. स्त्री.) साँप की कंचुली।
कांचा—(हि. वि.) देखें 'कच्चा'।
कांची—(हि. स्त्री.) करघनी, घुँघची।
कांचुली—(हि. स्त्री.) कंचुली।
कांचू—(हि. पुं.) साँप का कंचुल; (वि.)
जिस रोगी को काँच निकलती हो।
काँछना—(हि. क्रि. स.) लाँग बाँधना, घोती
खोसना।
काँछा—(हि. पुं.) कमर के पीछे खोसने
का घोती का भाग, घोती का किनारा,
लँगोट; (स्त्री.) आकांक्षा।
काँजी—(हि. स्त्री) एक प्रकार का खट्टा
किया हुआ जल, मट्ठा, दही या फटे
टुए दूध का पानी, छाछ।
काँजीवरम्—(हि. पुं.) भारत का एक
दक्षिणी नगर।
काँट—(हि. पुं.) देख 'काँटा'।
काँटा—(हि. पुं.) कंटक, किसी पीवे या
वृक्ष का कड़ा तथा नुकीला अंकुर, अंकुसी,
अंकुडी, गले का एक रोग, लोहे की
कील, मछली मारने की कंटिया, लोहे
की सुकी हुई कीलों का गुच्छा, कोई
नुकीली वस्तु, गुंथने का यन्त्र, सोना-
चाँदी तौलने की छोटी तुला, नाक या
कान का एक आभूषण, त्रिशूल के आकार
का यन्त्र जिसको भोंककर अंग्रेज लोग
रोटी खाते हैं, सूजा, घड़ी की सूई,
गणित में गुणनफल जाँचने की एक विधि,
दुःखदायी मनुष्य; (मुहा.) —निकल
जाना—वाघक का हट जाना; —घनना—
अड़चन डालना; —हो जाना—अति
दुर्बल होना; काँटे की तौल—ठीक-ठीक
तौल; —काँटे पर बसीटा जाना—योग्यता
से कहीं अविक प्रशंसा किया जाना;
(राह में) काँटे बिछाना या बोन-
रोड़े अटकाना; काँटों पर लोटना—अति
कष्ट उठाना।
काँटी—(हि. स्त्री.) छोटा महीन काँटा।
काँटेदार—(हि. वि.) काँटा लगा हुआ।
काँठा—(हि. पुं.) कण्ठ, गला, गले की
रेखा, तट, किनारा, जुलाहे की बाना
चढ़ाने की लकड़ी।
कांड—(सं. पुं.) अंश, विभाग, वृक्ष का
स्कंध, ग्रंथ का विभाग।
काँड़ना—(हि. क्रि. स.) रौंदना, कटना,
लतियाना।

कांडा—(हि. पुं.) वृक्षों का एक रोग, दाँत में लगनेवाला एक कीड़ा।
 कांडी—(हि. स्त्री.) ओखली का गड़्हा, लकड़ी का लट्ठा या बल्ला, भारी बोझ उठाने-बैठाने का डंडा, बाँस, अरहर की सूखी डंठी, रहठा, दियासलाई।
 कांत—(सं. वि.) प्रिय, मनोरम; (पुं.) पति, प्रेमी, चंद्रमा, वसंत, एक तरह का लोहा।
 कांता—(सं. स्त्री.) प्रिया, पत्नी, सुंदरी स्त्री।
 कांति—(सं. स्त्री.) मुख-सौन्दर्य, चमक, शृंगार, चंद्रमा की कला; -कर—(वि.) शोभा या सौन्दर्य बढ़ानेवाला।
 कांती—(हि. स्त्री.) तीव्र पीड़ा, विच्छ्र का डंक।
 कांथरि—(हि. स्त्री.) कथरी।
 कांदना—(हि. क्रि. अ.) चीख मारकर रोना, विलाप करना।
 कांदा—(हि. पुं.) कंदली, एक पीवा जिसका गुल्म प्याज के सदृश होता है, इससे माँड़ी बनती है।
 कांदू—(हि. पुं.) वनियों की एक जाति जो हलवाई का काम करती है, भड़भूजा।
 कांदो—(हि. पुं.) कंदम, कीचड़।
 कांध—(हि. पुं.) स्कन्ध, कन्धा, कोल्हू का एक भाग; (मुहा.)—देना-सहारा देना।
 कांधना—(हि. क्रि. स.) कंधे पर रखना, उठाना, नाथना, स्वीकार करना, मानना, बोझ उठाना।
 कांधर—(हि. पुं.) कृष्ण, कान्हा।
 कांधा—(हि. पुं.) स्कन्ध, कन्धा, कृष्ण, कान्हा।
 कांध—(हि. स्त्री.) तीली, पतली छड़, कनकौवे की पतली तीली, सुअर के पैर का कांटा, रांग, हाथी का दाँत, कान का एक आभूषण, कंध, कंधकौपी।
 कांधना—(हि. क्रि. अ.) कम्पित होना, धर-धराना, धराना, दर से कम्पित होना।
 कांधकांध, कांधकांध—(हि. पुं.) कौवे का मन्त्र।
 कांधर—(हि. स्त्री.) बहगी, बाँस का डंज जिसके दोनों किनारों पर छींके लटककर पदार्थों को ले जाते हैं।
 कांधरा—(हि. वि.) व्याकुल, उद्विग्न, पचड़ाया हुआ।
 कांधरिया—(हि. पुं.) कांधर ले जानेवाला शायी।
 कांधर—(हि. पुं.) कामरूप, कामला रोग।
 कांधरयो—(हि. पुं.) तीर्थयात्री, धर्मर निरत यात्रा करनेवाला।
 कांधि—(हि. पुं.) एक प्रकार की लम्बी घान।
 कांधा—(हि. पुं.) कांस्य, ताँबे और इस्ते

को मिलाकर बनी हुई धातु, नीख माँगने का लप्पर।
 कांधागर—(हि. पुं.) कांस्यकार, काँसे के पात्र बनानेवाला, ठठेरा।
 कांधिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का अन्न, मोठ।
 कांधी—(हि. स्त्री.) घान के पीवे का एक रोग, काम रोग, खाँसी।
 कांधुल—(हि. पुं.) काँसे का बना हुआ एक चौकीर टुकड़ा जिसमें चारों ओर छोटे-बड़े गड़्हे होते हैं, सुनार लोग इस पर पीटकर गोल कटोरिया बनाते हैं।
 कांध्य—(सं. पुं.) काँसा, कसकुट, एक प्रकार का बाजा, घड़ियाल, एक प्रकार की तील; -ताल—(पुं.) करताल, मजीरा।
 का—(हि. प्रत्य.) पत्नी कारक का चिह्न, स्त्रीलिंग का रूप 'की'; (सर्व.) क्या।
 काइयो—(हि. वि.) वर्त, अर्थ, स्वार्थसाधक।
 काई—(हि. अव्य.) क्यों, किस लिये; (सर्व.) किसका।
 काई—(हि. स्त्री.) जल तथा तरी में होनेवाली एक घास, मल, धातु पर लगनेवाला मुरचा, फेन, माँड़, मैल; (मुहा.)—छुड़ाना—जमा हुआ मैल छुड़ाना; -सा फटना—विसर जाना।
 काऊ—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी सूँटी; (सर्व.) कोई, कुछ; (अव्य.) कभी; (पुं.) काक, कौवा।
 काक—(हि. पुं.) एक अन्न, कगनी।
 काक—(सं. पुं.) वायस, कौवा।
 काकगोलक—(सं. पुं.) कौवे की आँत की पुतली।
 काकचरित्र—(सं. पुं.) शकुन शास्त्र का अंश विंगैय।
 काकचिन्ता—(सं. स्त्री.) गुंजा, धुंघनी।
 काकजंघा—(सं. स्त्री.) एक औषधि, चकनेती, पंचवी, मृदाभूषणी लता।
 काकचेष्टा—(सं. स्त्री.) कौए ना प्रयत्न करना।
 काकजात—(सं. पुं.) कौवे द्वारा पालन-पोषण की हुई कौवल।
 काकजासिगी—(हि. स्त्री.) काकजा नामक पेड़ में लगी काँची की रवा के काम आती है।
 काकण—(सं. पुं.) कान्हे तथा लाल फव्वे का कुछ रोग।
 काकान्दा—(सं. स्त्री.) मत्तर्त भाग की जगती।
 काकान्त—(सं. स्त्री.) कौए का समान।
 काकान्तकौच—(सं. पुं.) मधुमेक्यम होनेवाला कौच; (वि.) जगन्मिक।

काकानुंडी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का नीला फूल, कौवाठोटी।
 काकवंत—(सं. पुं.) कौए अंगमन्त्र वात, निरर्थक बातों।
 काकवज्ज—(सं. पुं.) मन्त्र के भीतर ही अग्नि, बड़वानल।
 काकनिद्रा—(सं. स्त्री.) अग्नि मन्त्र: निद्रा।
 काकपक्ष—(सं. पुं.) मन्त्र के दोनों ओर के वालों की रचना, पट्टा।
 काकपद—(सं. पुं.) चिह्न विंगैय () जो छूटे हुए शब्द का स्थान सूचित करने के लिये पक्ति के नीचे लगाया जाता है।
 काकपच्छ—(हि. पुं.) देवों 'काकपद'।
 काकपाली—(हि. स्त्री.) कौवल।
 काकबंध्या—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिन्को एक ही सन्तान उत्पन्न हुई हो।
 काकवलि—(सं. पुं.) श्वाभ में कौवे को दिया जानेवाला भोजन का अंश।
 काकभीरु—(सं. पुं.) कौवे से उरनेवाला पक्षी, उल्लू।
 काकभुशुंडि—(सं. पुं.) एक प्राण्य जो राम के सच्चे भक्त थे, लोमन कृषि के शाप से इनको काक होना पड़ा था।
 काकमाची—(सं. स्त्री.) मकोय का पीवा।
 काकरव—(सं. पुं.) कोलाहल करनेवाला, डरपीक मनुष्य।
 काकरासिगी—(हि. स्त्री.) देवों 'काकजासिगी'।
 काकरी—(हि. स्त्री.) ककटी, ककड़ी।
 काकरत—(सं. पुं.) कौवे की बोली।
 काकरेजा—(हि. पुं.) लाल तथा कान्धा मिले हुए रंग का वस्त्र।
 काकल—(सं. पुं.) कच्छमणि, गले का हार, जगती काका लोहा; (स्त्री.) मेष लगाने की मन्त्री।
 काकली—(सं. स्त्री.) शीशी मन्त्र: मणि, एक प्रकार का बाजा, मंत्र लगाने की मन्त्री।
 काकसेन—(हि. पुं.) कलसोन के कर्म-कारों का निर्देशन करनेवाला जमादार, (सं. कौमवेन का अर्थभंग)।
 काकान्त—(सं. स्त्री.) नीर की बोली, कौवा-ठोटी, धुंघनी; (हि. पुं.) पिना का भाई, नाथा।
 काकानुजा—(हि. पुं.) बड़ा मोटा, काका-नुजा।
 काकानुगोलक न्याय—(सं. पुं.) किसी शब्द का वाक्य की उलट-पलट करने वाले अर्थ अन्वय-अन्वय कहना।
 काकानुजा—(हि. पुं.) एक प्रकार का शोटीदार गुंजा।

काकाल-(सं. पुं.) पहाड़ी कौवा, वृक्ष-नाग का वृक्ष ।

काकिणी-(सं. स्त्री.) गुंजा, वृंधची, पण का चौथा भाग जो पाँच गंडे कौड़ियों के बराबर होता है, एक मासे का चौथा भाग, एक कौड़ी ।

काकी-(सं. स्त्री.) वायसी, मादा कौवा; (हि. स्त्री.) चाची ।

काकीय-(सं. वि.) काक सम्बन्धी ।
काकु-(सं. स्त्री.) शोक, भय इत्यादि से स्वरूप बदल जाना, विरुद्ध अर्थ बोधक स्वर, उल्लास, व्यंग्य, ताना, दीनता का वाक्य, अलंकार में व्यंग्योक्ति का एक भेद जिसमें शब्द की ध्वनि से मित्र-मित्र अर्थ ग्रहण किया जाता है ।

काकुवाद-(सं. पुं.) गिड़गिड़ाकर कही हुई वात, शोक या भय से विकृत ध्वनि ।

काकवित-(सं. स्त्री.) देख 'काकुवाद' ।
काकोल-(सं. पुं.) पहाड़ी कौवा, जंगली नुअर, कौहार ।

काकोली-(सं. स्त्री.) एक कन्द विशेष जो आँपघि में प्रयुक्त होता है ।

काक-(हि. पुं.) देखें 'काक'; (पं., अं. काक) दोतल में लगाने का डट्टा ।

कागज-(अ. पुं.) सन, वाँस, चीयड़े या धान से बनाई जानेवाली वस्तु जिसपर लिखा जाता है, लेख्य, दस्तावेज, खका, ऋणपत्र, अखबार, समाचार पत्र; -पत्र-(पुं.) किसी विषय से संबद्ध लिखे कागज, सवूत के कागज; (मुहा.)-
-फाला करना-त्रेकारकी बातें लिखना;
-की नाव-क्षणमंगुर वस्तु; -के छोड़े दौड़ाना-लंबी लिखापट्टी करना; कागजी कारवाई करना ।

कागजात-(अ. पुं.) कागज-पत्र ।

कागजी-(अ. वि.) कागज का बड़ा, लिगित (प्रमाण), एक तरह का पतले छिद्रकेवाला (बादाम या नीबू);
-जारवाई-(स्त्री.) लिखा-पट्टी;
-सवूत-(पुं.) लिगित प्रमाण-पत्र ।

कागद-(हि. पुं.) पत्र, कागज ।

कागभुंड़-(हि. पुं.) देखें 'काकभुंड़' ।

कागर-(हि. पुं.) पत्र, कागज, पक्षियों के जड़ जानेवाले कोमल पर ।

कागरी-(हि. वि.) तुच्छ, ओछा ।

कागा-(हि. पुं.) कौआ ।

कागा-वानो-(हि. स्त्री.) प्रातःकाल पी जानेवाली कान ।

कागरोच-(हि. पुं.) काकरव, कोलाहल ।

कागौर-(हि. पुं.) श्राद्धदि में कौवे को

दिया जानेवाला ग्रास ।

काच-(सं. पुं.) लाख, चपड़ा, कचिया नोन, कालानमक, शीशा; -कूपी-(स्त्री.) शीशे की दोतल ।

काचरी-(हि. स्त्री.) केंचुली ।

काचा-(हि. वि.) कच्चा, भीरु, मट्टु ।

काची-(हि. स्त्री.) दूध रखने का मिट्टी का पात्र, तीखुर आदि का हलुआ ।

काछ-(हि. पुं.) जाँघ का ऊपरी भाग, धोती की लाँग; (मुहा.)-खोलना-नंगा होना; -लगना-चाल में जंघों की रगड़ के कारण चमड़े का छिल जाना या फुंसियाँ निकलना ।

काछना-(हि. क्रि.स.) धोती को कमर में खोसना, श्रृंगार करना, सँवारना, तरल पदार्थ को हाथ से पोंछकर किसी पात्र के किनारे पर घरना ।

काछनी-(हि. स्त्री.) वह धोती जो ऊपर चढ़ाकर पहिनी जाती है, कछनी, जाँघिये के ऊपर पहिने का वस्त्र ।

काछी-(हि. स्त्री.) लाँग, उठी हुई धोती; (पुं.) एक कृषक जाति ।

काज-(हि. पुं.) कार्य, काम, व्यवसाय, प्रयोजन, उद्देश्य, निमित्त, बटन लगाने का छेद ।

काजर-(हि. पुं.) कज्जल, आँख में लगाने की धुएँ की कालिख ।

काजरी-(हि. स्त्री.) वह गाय जिसकी आँखों के किनारे पर काला घेरा होता है ।

काजल-(हि. पुं.) कज्जल, आँखों में लगाने की धुएँ की कालिख; (मुहा.)-

-की कोठरी-(स्त्री.) ऐसा स्थान जहाँ जाने से मनुष्य को कलक लगता है; -पारना-दीपक के धुएँ को किसी पात्र में जमाना ।

काजी-(अ. पुं.) मुसलमान शासनतंत्र का न्यायाधीश, मौलवी ।

काजू-(हि. पुं.) एक वृक्ष जिसकी फली खाई जाती है, इस वृक्ष के फल की गरी;

-भोज-(वि.) देखाँवा, काम में न आनेवाला ।

काट-(हि. स्त्री.) छेदन, कटाई, कटा हुआ ग्रंथ, पीड़ा, मल्लयुद्ध का कौशल, ताप के खेल में तुरूप का रंग, कीट,

मल, कपट, छल, घृत्ता, धाव; -कपट-(स्त्री.) छिपाकर या चुराकर रखना;

-कूट-(स्त्री.) मारकाट; -छाँट-(स्त्री.) घटाव, संशोधन ।

काटकी-(हि. स्त्री.) बन्दर या गालू नचानेवाले नट की छड़ी ।

काटन-(हि. स्त्री.) खण्ड, टुकड़ा, एक प्रकार का सूती धागा (अं. 'काटन' का अपभ्रंश) ।

काटना-(हि. क्रि.स.) तीखे शस्त्र से टुकड़ा करना, पीसना, रगड़ना, बनाना, निकालना, तैयार करना, भाग लगाना डँस लेना, फाड़ना, देख पड़ना, मारना असिद्ध या अप्रमाणित करना, छाँटना, मिटाना, समय विताना, चलना, नष्ट करना, छंका तोड़ना, अलग करना, स्वच्छ करना, सहन न होना, बँसाना, धाव करना, कतरना, बुरे ढंग से धन कमाना, लकीर खींचकर लिखावट काटना, गणित में एक संख्या से दूसरी संख्या को ऐसा भाग देना जिससे शेष न बचे, कारावास में समय विताना, शरीर में कीड़े के काटने से छरछराना; (मुहा.) काटो तो खून नहीं-विलकुल स्तब्ध हो जाना; काटने दौड़ना-वहुत क्रोध से दौलना ।

काटर-(हि. वि.) देखें 'कट्टर' ।

काटू-(हि. वि.) काटनेवाला, भयानक, डरावना ।

काठ-(हि. पुं.) काण्ठ, लकड़ी, ईधन, लकड़ी की वनी हुई बेड़ी; -कवाड़-(पुं.) निरर्थक टूटी-फूटी सामग्रियाँ; -का उल्लू-(पुं.) बहुत मूर्ख मनुष्य; (मुहा.) -की हाँडी-ऐसा पदार्थ जो केवल एक बार ही बोखा दे सके; -होना-स्तब्ध होना ।

काठड़ा-(हि. पुं.) काठ की वनी हुई बड़ी परात, कठौता ।

काठसांडू-(पुं.) नेपाल राज्य की राजधानी का नाम ।

काठिन्य-(सं. पुं.) कठिनता, कड़ापन, निष्ठुरता ।

काठी-(हि. स्त्री.) घोड़े या ऊँट की पीठ पर रखने का जीन (गद्दी) जिसके नीचे काठ लगा होता है, डील-डौल, शरीर की गठन, ढाँचा, तलवार का खोल; (वि.) काठियावाड़ संबंधी ।

काठीं-(हि. पुं.) एक प्रकार का पंजाबीवान ।

काढ़ना-(हि. क्रि.स.) खींचना, निकालना, दिखाना, प्रत्यक्ष करना, अलग करना, चित्रकारी करना, सूई से वेल-बूटे बनाना, ऋण लेना, पकाना, छानना ।

काड़ा-(हि. पुं.) क्वाथ, उवाली हुई आँपघि ।

काण-(सं. पुं.) कौवा; (वि.) एक आँख-वाला, काना ।

काण्व- (सं. पुं.) कानापन ।
 कात- (हि. पुं.) मंड के बाल काटने की कंची ।
 कातना- (हि. क्रि. स.) रुई को बटकर तागा बनाना, चरखा चलाना ।
 कातर- (सं. वि.) व्याकुल, भयभीत, डरा हुआ, विवश, चंचल, अवीर, डाँवाडोल, दुःखित; (हि. स्त्री.) कोल्हू का पटरा जिस पर बैठकर हाँकनेवाला बेलों को चलाता है, कतरी ।
 कातरता- (सं. स्त्री.) व्याकुलता, घबड़ाहट, अवीरता, भीरुता, चंचलता ।
 कातर्य- (सं. पुं.) देखें 'कातरता' ।
 कात्ता- (हि. पुं.) सूत, डोरा, तागा, एक प्रकार की मिठाई जो तागे के समान होती है ।
 कातिक- (हि. पुं.) कातिक का महीना ।
 कातिकी- (हि. स्त्री.) कातिक महीने की पूर्णमासी ।
 काती- (हि. स्त्री.) कंची, कतरनी, चाकू, छुरी, छोटी तलवार ।
 कात्यायन- (सं. पुं.) एक प्राचीन ऋषि का नाम, एक बौद्ध आचार्य ।
 कात्यायनी- (सं. स्त्री.) दुर्गा, गेखा वस्त्र पहिने हुए अयेड़ विधवा, कात्यायन ऋषि की पत्नी ।
 काथ- (हि. पुं.) कत्था ।
 काथरी- (हि. स्त्री.) कंथा, कथरी, गुदड़ी ।
 काथिक- (सं. वि.) अच्छी-अच्छी कथा बनानेवाला, कथा-संबंधी ।
 कादंब- (सं. पुं.) कलहंस, कदम का फूल, वाण ।
 कादंबरी- (सं. स्त्री.) मद्य, कोयल, सरस्वती, वाणी, मैना, वाणमट्ट-विरचित गद्यकाव्य और उसकी नायिका ।
 कादंबिक- (सं. वि.) भोजन बनानेवाला ।
 कादंबिनी- (सं. स्त्री.) भेषमाला, घटा ।
 कादर- (हि. वि.) देखें 'कातर' ।
 कादा- (हि. पुं.) जलपोत की पटरी ।
 काद्विरी- (अ. स्त्री.) चोली ।
 कान- (हि. पुं.) सुनने की इन्द्रिय, कर्ण, श्रवण, सुनने की शक्ति, हल के आगे फूँड चौड़ा करने के लिये लगाया हुआ लकड़ी का टुकड़ा, कान के आकार का किसी पदार्थ का भाग, कना, सोने का कान में पहिने का एक आभूषण, टेढ़ा या भेड़ा कान, चारपाई का ट्यूबपन, तराजू का पतंगा, नाव की पतवार, तोप या बंदूक की रेंजकदामी, धाली; (मुद्रा.) -उठाना-आहट देना, सीकड़ा भेजना; -उठाना-पतिता करना; -गठाना या कानना-जिसी से बड़

जाना; -करना-सुनना; -कानना-बड़कर होना; -का पतला-घिना साँचि-विचार किसी के बहूँ को सच्चा मान लेने-वाला; -खड़े करना-सावधान होना; -खाना-कोलाहल करना; -गरम करना-कान मलना; -देना-ध्यान देना; -पकड़ना-अपनी अशुद्धि को मान लेना; -पकड़कर उठना-बैठना-बच्चों को दी जानेवाली एक सजा; -पकड़कर निकाल देना-अनादरपूर्वक निकाल देना; -पर जूँ न रेंगना-विलकुल ध्यान न देना; -पर हाथ घरना-सर्वथा अस्वीकार करना; -पूँछ दवाकर चल देना-चुपके से भाग जाना; -फूँकवाना-गुरुमुख होना, मंत्र की दीक्षा लेना; -फूँकना-गुरुमुख करना, चेला बनाना; किसी का मन किसी के विरुद्ध वात करके फेर देना; -बहना-कान से पीव बहना; -भर जाना-सुनते-सुनते ऊब जाना; -भरना-किसी के बारे में शिकायत करके किसीको उसके विरुद्ध करना; -मैं डालना-सुनाना; -मैं तेल डाले बैठना-सुनकर भी ध्यान न देना, उपेक्षा करना; -कानों कान खबर न होना-किसी विषय को अत्यन्त गुप्त रखना; कानों पर हाथ घरना-अनभिज्ञता प्रकट करना ।
 कानक- (सं. पुं.) जायफल, प्रतूरे का बीज ।
 कानड़ा- (सं. स्त्री.) एक रागिणी का नाम; (हि. वि.) कान ।
 कानन- (सं. पुं.) वन, जंगल, गृह, घर ।
 काना- (हि. वि.) कान, एक आँसुवाला, एकाध, कीड़े से खाया हुआ (फल), कना, बक, टेढ़ा, तिरछा; (पुं.) आकार की भाषा जो अक्षरों में लगाई जाती है, पासे पर की बिन्दी ।
 कानाकानी- (हि. स्त्री.) गुप्त बात, कानाफूसी ।
 कानाफूसी- (हि. स्त्री.) गुप्त बात, कान में धीरे से कही हुई बात ।
 कानावाती- (हि. स्त्री.) देना 'काना-फूसी' ।
 कानावेज- (हि. पुं.) एक प्रकार का महीन वस्त्र ।
 कानि- (हि. स्त्री.) लोकलज्जा, मर्यादा, शिक्षा, सोन ।
 कानिद- (हि. पुं.) हाहाक भिम बाँस की सचनी से तरावने ममय मगिने की दवाने है ।
 कानो- (हि. स्त्री.) एक आँगवस्त्र स्त्री, हाथ की समे छोटी सेकुपी; -डंगली-

(स्त्री.) छोटी डंगली; -कौड़ी- (स्त्री.) फूटी हुई कौड़ी, अति लुच्छ पदार्थ ।
 कानोन- (सं. पुं.) अधिवाहित कन्या का पुत्र ।
 कानून- (अ. पुं.) विधि, राजाज्ञा, विधान, नियम ।
 कानूनगो- (अ. पुं.) माल महुकमे का एक क्षेत्रीय अधिकारी जिसके अधीन कई पटवारी होते हैं ।
 कानूनिया- (हि. वि.) नियम-व्यवस्था या कानून जाननेवाला ।
 कान्यकुञ्ज- (सं. पुं.) आयुनिक कदांज का प्राचीन नाम, इस देश का निवासी, इस देश का ब्राह्मण ।
 कान्ह- (हि. पुं.) श्रीकृष्ण ।
 कान्हड़ा- (हि. पुं.) एक राग का नाम ।
 कान्हुर, कान्हुरा- (हि. पुं.) कान्हड़ा, कोल्हू की बह लकड़ी जो इसकी कातर में बंधी होती है ।
 कापटिक- (सं. पुं.) दूसरे का मर्म जानने-वाला, बंचक ।
 कापट्य- (सं. पुं.) कपटता, धूर्तता ।
 कापाटिका- (सं. पुं.) छोटा कनाट या किवाड़ा ।
 कापालिक- (सं. पुं.) वाममार्गी तान्त्रिक सावु जो मद्य-मांस खाते हैं तथा हाथ में मनुष्य का कपाल रखते हैं ।
 कापाली- (सं. स्त्री.) कीवाटोंडी; (पुं.) शिव ।
 कापिक- (सं. वि.) बंदर-भंसा ।
 कापिल- (सं. पुं.) सांख्य दर्शन ज्ञानने-वाला, कपिल मुनि का बनाया हुआ मन्व, भूरा रंग; (वि.) कपिल मुनि संबंधी, भूरे रंग का ।
 कापिस- (सं. पुं.) मायवी के फूलों की बनी हुई मधिरा ।
 कापुष्य- (सं. पुं.) निरिक्त पुत्र, दरभंग आदमी ।
 कापुष्यता- (सं. स्त्री.) नीरवा, निरुत्साह ।
 कापुष्यत्व- (सं. पुं.) देखें 'कापुष्यता' ।
 कापोत- (सं. वि.) पुस्तक का भाग, कौतिल ।
 काफिर- (अ. पुं.) ईसाई का अतिरार न माननेवाला, अतीना की अतीना ।
 काफिरा- (अ. पुं.) साँसों का मसारा ।
 काफी- (अ. स्त्री.) कफरा; (हि.) पुन, पर्वण; -ते ज्ञान-अज्ञानता में अतिरार ।
 कादर- (हि. वि.) विधि, विधान, अतिरार, अतिरार ।
 कावला- (हि. पुं.) ज्ञान का ज्ञान का अतिरार (अ. वि. पुं. पर ज्ञान), कपी शिखरी ।

कावा—(अ. पुं.) चाँकोर इमारत, मक्के की प्रसिद्ध मसजिद या इमारत ।
 कावजिज—(अ. वि.) कवजा करने या रगनेवाला ।
 काविल—(अ.वि.) योग्य, लायक, विद्वान् ।
 काविस—(हि. पुं.) एक रंग जिससे रँगकर मिट्टी के बरतन पकाये जाते हैं ।
 कावो—(हि. स्त्री.) मल्लयुद्ध का एक पेंच, युक्ति ।
 कावुल—(पुं.) अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की एक नदी जिस पर यह नगर बसा है ।
 कावुली—(हि. वि., पुं.) कावूल संवंधी, कावुल का निवासी ।
 कावू—(तु. पुं.) वश, नियंत्रण, अधिकार ।
 काम—(सं. पुं.) शुक, वीर्य, यथेष्ट वार्ता, वाञ्छा, स्वीकार, वाक्य, अनुमति, इच्छा, महादेव, विष्णु, कामदेव, तृष्णा, सहवास की इच्छा, चतुर्वर्ग में से एक ।
 काम—(हि. पुं.) कार्य, कर्म, कठिन कार्य, उद्देश्य, व्यवहार, सम्बन्ध, व्यवसाय, रचना, प्रयोजन, नकाशी; (मुहा.)
 -कॉ-उपयोगी; -आना-उपयोगी होना;
 -चलना-निरन्तर काम का होना;
 -तमाम करना-काम पूरा करना, जान से मार डालना; -तमाम होना-मृत्यु प्राप्त होना; -निकालना-कार्य सिद्ध होना; -पड़ना-पाला पड़ना; -में लाना-व्यवहार करना ।
 कामकला—(सं. स्त्री.) कामदेव की पत्नी, रति, मयुन, चन्द्रमा की सोलह कलाएँ, तन्त्रोक्त विद्या विशेष ।
 कामकाज—(हि.पुं.) काम-धंधा, व्यवसाय ।
 कामकाजी—(हि.वि.) व्यवसायी, कारवारी ।
 कामकैलि—(सं. स्त्री.) कामक्रीड़ा, रति ।
 कामकूट—(सं. पुं.) वेश्यावृत्ति, रंडीवाज ।
 कामग—(सं.वि.) इच्छानुसार चलनेवाले ।
 कामगार—(हि. पुं.) राज्य के कार्यों का प्रबन्ध करनेवाला, कामदार ।
 कामचर—(सं. वि.) स्वेच्छाचारी ।
 कामचलाऊ—(हि. वि.) किसी-न-किसी प्रकार से काम चला देनेवाला ।
 कामचार—(सं.वि.) स्वच्छन्द विचरनेवाला ।
 कामचारी—(सं. वि.) कामुक, स्वेच्छाचारी ।
 कामचोर—(हि. वि.) काम करने से चित्त चुरानेवाला, धालसी, मुस्त ।
 कामज—(सं. वि.) वाग्मता या अमिलापा से उत्पन्न ।
 कामज उबर, कामज्जर—(सं. पुं.) एक प्रकार का उबर जो अत्यन्त ब्रह्मचर्य

पालन करने से स्त्री-पुरुष को होता है ।
 कामजित्—(सं. पुं.) काम को जीतनेवाले महादेव, कार्तिकेय, जिनदेव ।
 कामठ—(सं. वि.) कमण्डल-सम्बन्धी कछुआ-सम्बन्धी ।
 कामड़िया—(हि. पुं.) रामदेव मत के चमार साधु ।
 कामतट—(सं. पुं.) कल्पवृक्ष ।
 कामता—(हि. पुं.) चित्रकूट ।
 कामतिथि—(सं. स्त्री.) त्रयोदशी, तेरस ।
 कामद—(सं. वि.) कामना या मनोरथ पूर्ण करनेवाला ।
 कामद गिरि—(सं. पुं.) चित्रकूट पर्वत ।
 कामद मणि—(सं. पुं.) चिन्तामणि ।
 कामदहन—(सं. पुं.) कामदेव को भस्म करनेवाले शिव ।
 कामदा—(सं. स्त्री.) कामधेनु, नागवल्ली, पान, दस अक्षरों का एक छन्द ।
 कामदानी—(हि. स्त्री.) बादले के तार या सलमे-सितारे की कपड़े पर कढ़ाई ।
 कामदार—(हि. पुं.) राज्य का प्रबंध करनेवाला, कारिन्दा; (वि.) कामदानी या कलावत् के बेल-बूटे बना हुआ ।
 कामदुधा, कामदुहा—(सं. स्त्री.) कामधेनु ।
 कामदूती—(सं. स्त्री.) परवल की लता, कोयल ।
 कामदेव—(सं. पुं.) कन्दर्प, मदन, अनंग ।
 कामधाम—(हि. पुं.) कामकाज, धन्धा, व्यवसाय ।
 कामधेनु—(सं. स्त्री.) सब मनोरथों को पूर्ण करनेवाली गाय, स्वर्ग की गाय ।
 कामध्वज—(सं. पुं.) मत्स्य, मछली ।
 कामना—(सं. स्त्री.) मनोरथ, इच्छा ।
 कामनाशक—(सं. पुं.) काम का नाश करनेवाले शिव ।
 कामवाण—(सं. पुं.) कामदेव के पाँच वाण; यथा-मोहन, उन्मादन, सन्तापन, शोषण और निश्चेष्टन ।
 कामभूख—(सं. पुं.) कल्पवृक्ष ।
 काममदन—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 काममाली—(सं. पुं.) गणेश ।
 कामयाव—(फा. वि.) सफल-प्रयत्न, सफल-मनोरथ ।
 कामयावी—(फा. स्त्री.) सफलता, कृतकार्यता ।
 कामरिपु—(सं. पुं.) कामदेव के शत्रु, महादेव, शिव ।
 कामरि, कामरी—(हि. स्त्री.) छोटा कम्बल, कमरी, काँवर ।
 कामरुचि—(सं. स्त्री.) एक अस्त्र जिसको विश्वामित्र ने अन्य शस्त्रों को विफल करने के लिये रामचन्द्र को दिया था ।

कामरू—(हि. पुं.) देखें 'कामरूप' ।
 कामरूप—(सं. पुं.) आसाम प्रदेश का विस्तृत भूभाग जो पुण्य-तीर्थ माना जाता है, यहाँ कामाख्या देवी का प्राचीन मन्दिर है; -त्त्व—(पुं.) एक सिद्धि विशेष जिसके प्रभाव से साधक मनमाना रूप धारण कर सकता है ।
 कामरूपी—(सं. वि.) इच्छानुसार रूप बदलने या धारण करनेवाला ।
 कामरेखा—(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
 कामल—(सं. पुं.) कमल रोग जिसमें सम्पूर्ण शरीर पीला पड़ जाता है ।
 कामला—(सं. स्त्री.) पाण्डु रोग, कामल ।
 कामली—(सं. वि.) कामला रोग से पीड़ित, पांडुरोगी; (हि. स्त्री.) छोटा कम्बल, कमली ।
 कामवती—(सं. स्त्री.) मैथुन की अमिलालापा करनेवाली स्त्री ।
 कामवल्लभ—(सं. पुं.) आम का वृक्ष, वसन्त ऋतु ।
 कामवान्—(सं. वि.) सम्भोग की इच्छा करनेवाला ।
 कामचिद्ध—(सं. वि.) मैथुन की इच्छा से व्याकुल ।
 कामशर—(सं. पुं.) कामदेव के वाण ।
 कामशास्त्र—(सं. पुं.) वह शास्त्र जिसमें स्त्री-पुरुषों के परस्पर समागम आदि व्यवहारों का वर्णन हो, अमीष्ट-संपादक शास्त्र, रतिशास्त्र ।
 कामसखा—(सं. पुं.) वसन्त ऋतु, आम का वृक्ष ।
 कामहा—(सं. पुं.) महादेव, विष्णु ।
 कामाकुश—(सं. पुं.) शिशु, उपस्थ ।
 कामांध—(सं. वि.) काम के वेग से हिताहित का ज्ञान न रखनेवाला ।
 कामा—(हि. स्त्री.) सुन्दरी स्त्री, कामिनी ।
 कामाक्षी—(सं. स्त्री.) एक तन्त्रोक्त देवी का नाम ।
 कामाख्या—(सं. स्त्री.) एक देवी का नाम ।
 कामानुर—(सं. वि.) काम के वेग से व्याकुल ।
 कामानुज—(सं. पुं.) क्रोध, रोष ।
 कामायुध—(सं. पुं.) आम का वृक्ष, शिशु, उपस्थ ।
 कामारि—(सं. पुं.) कामदेव के शत्रु, शिव ।
 कामार्त—(सं. वि.) काम-पीड़ित ।
 कामावतार—(सं. पुं.) छः-छः मात्राओं का चार पादों का छन्द ।
 कामावशायिता—(सं. स्त्री.) सत्य-संकल्प, अणिमादि आठ सिद्धियों में से एक ।

कामाशन—(सं. पुं.) इच्छानुसार भोजन ।
 कामासयत—(सं. वि.) काम के बशीभूत ।
 कामिनी—(सं. स्त्री.) कामयुक्ता स्त्री,
 सुन्दरी, श्री स्त्री, मद्य, एक रागिणी;
 -कांत—(पुं.) एक छन्द जिसमें छः छः
 मात्राओं के चार पाद होते हैं; -मोहन—
 (पुं.) ऋग्विणी छंद ।
 कामी—(सं. पुं.) चकवा, कपोत, चन्द्रमा,
 विष्णु, सारस पक्षी; (वि.) इच्छुक,
 कामुक, प्यार करनेवाला, अभिलाषी,
 प्रेमी; (हि. स्त्री.) कांसे या अन्य धातु
 की ढली हुई छड़ ।
 कामुक—(सं. वि.) कामी, अभिलाषी,
 इच्छुक, चाहनेवाला, विषयी ।
 कामुकता—(सं. स्त्री.) विषय-वासना ।
 कामुका—(सं. स्त्री.) धन चाहनेवाली स्त्री ।
 कामुकी—(सं. स्त्री.) व्यभिचारिणी स्त्री ।
 कामेश्वरी—(सं. स्त्री.) तन्त्र के अनुसार
 एक भैरवी का नाम, कामाख्या की पांच
 मूर्तियों में से एक ।
 कामोद—(सं. पुं.) एक प्रकार की रागिणी ।
 कामोद्दीपक—(सं. वि.) मैथुन की इच्छा
 प्रबल करनेवाला ।
 कामोद्दीपन—(सं. पुं.) मैथुन की इच्छा
 को तीव्र करना ।
 कामोपहृत—(सं. वि.) कन्दर्प के वाणों से
 व्याकुल ।
 काम्य—(सं. वि.) कमनीय, सुन्दर,
 कामनायुक्त, कर्तव्य, करने योग्य,
 अभीष्ट; -कर्म—(पुं.) अभीष्ट सिद्धि
 के लिये किया हुआ कर्म; -ता—(स्त्री.)
 कमनीयता, कर्तव्यता ।
 काम्यष्टि—(सं. स्त्री.) कामना की सिद्धि
 के लिये किया जानेवाला यज्ञ ।
 काय—(सं. पुं.) शरीर, देह, मूर्ति, समूह,
 स्वभाव, प्रजापति, तीर्थ, गृह, ब्रह्मा,
 लक्ष्य, प्राजापत्य विवाह, मूलवन, वृक्ष
 का तना; -क—(वि.) शारीरिक देह
 संबंधी; -सिक्त—(स्त्री.) शरीर के
 प्रत्येक अङ्ग पर कुप्रभाव डालनेवाले
 रोगों की सिक्तता ।
 कायदा—(अ. पुं.) नियम, विधान, क्रम ।
 कायफल—(सं. पुं.) एक वृक्ष जिसकी
 छाल औषधि में प्रयुक्त होती है ।
 कायबंधन—(सं. पुं.) परधनी, कर्मबंध ।
 कायम—(अ. वि.) स्थित, सड़ा, विउ-
 मान, स्थिर, स्थायी ।
 कायर—(हि. वि.) भौंर, कातर, डर-
 पोत; -ता—(स्त्री.) भीतता ।
 कायल—(अ. वि.) माननेवाला, निर-

त्तर; (मुहा.)—करना—निरुत्तर कर देना;
 -होना—मान लेना, निरुत्तर हो जाना ।
 कायली—(हि. स्त्री.) ग्लानि, शर्म ।
 कायव्यूह—(सं. पुं.) शरीर में वात, पित्त,
 श्लेष्मा, रक्त इत्यादि सात धातुओं का
 विन्यास अर्थात् इनके स्थान और विभाग
 का क्रम, कर्मभोग के लिये योगियों द्वारा
 चित्त में कल्पित इन्द्रिय-विन्यास ।
 कायसौख्य—(सं. पुं.) शरीर का सुख ।
 कायस्थ—(सं. पुं.) शरीर में रहनेवाला,
 अन्तर्गामी, परमेश्वर, एक जाति विशेष
 जो त्रिभुवनदेव को अपना आदि पुरुष
 मानती है ।
 कायस्था—(सं. स्त्री.) बड़ी इलायची,
 तुलसी, आमला, हर ।
 काया—(सं. स्त्री.) तनु, शरीर; (मुहा.)
 -पलटना—नया रूप धारण करना ।
 कायाकल्प—(हि. पुं.) औषधियों के प्रभाव
 से बूढ़ शरीर को युवा बनाने की विधि ।
 कायापलट—(हि. स्त्री.) काया-परिवर्तन,
 बहुत बड़ा परिवर्तन, बड़ा हेर-फेर, एक
 शरीर के रूप को दूसरे शरीर में पलटना ।
 कायिक—(सं. वि.) शरीर संबंधी, शरीर
 से किया हुआ, शरीर से उत्पन्न ।
 कार—(सं. पुं.) बध, निश्चय, कार्य, क्रिया,
 करने या बनानेवाला, कुछ संज्ञाओं
 के साथ लगकर 'कार' शब्द 'कर्ता'
 अर्थ में जाता है; यथा—कर्मकार, सुवर्ण-
 कार इत्यादि; वर्णमाला के अक्षरों के
 बाद जोड़ने से उस अक्षर का स्वतन्त्र
 बोध करता है; यथा—अकार, ककार,
 इत्यादि ।
 कारक—(सं. वि.) करनेवाला, (यथा—
 आनन्दकारक, हितकारक इत्यादि);
 (पुं.) वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का
 क्रिया के साथ संबंध को कारक कहते हैं ।
 कारकदीपक—(सं. पुं.) दीपक अलंकार का
 एक नेद जिसमें कई क्रियाओं का एक
 ही कर्ता रहता है ।
 कारक हेतु—(सं. पुं.) प्रधान कारक ।
 कारकण—(हि. पुं.) काम करनेवाला ।
 कारखाना—(फा. पुं.) बड़ी उद्योग-संस्था,
 फ़ैक्टरी, कारख़ार ।
 कारखानेदार—(फा. पुं.) कारखाने का
 मालिक, उद्योगपति, मिल-मालिक ।
 कारगर—(फा. वि.) असर या प्रभाव
 करनेवाला ।
 कारगुजार—(फा. वि.) काम-गर्भ में कुशल ।
 कारगुजारी—(फा. स्त्री.) कार्य-गर्भिता,
 प्रबंधिता ।

कारज—(हि. पुं.) कर्ज, काम ।
 कारटा—(हि. पुं.) कर्त, कर्ता ।
 कारण—(सं. पुं.) हेतु, निमित्त, नायन,
 उद्देश्य, इन्द्रिय, प्रमाण, मूल, जड़, आदि
 शरीर, कर्म, काम, कार्यवाही; -जल—
 (पुं.) ब्रह्माण्ड की सृष्टि का कारण जल;
 -ता—(स्त्री.) हेतुता, कारण का भाव;
 -त्व—(सं. पुं.) कारणता; -भूत—
 (वि.) कारण-स्वरूप; -माला—(स्त्री.)
 हेतुओं की श्रृंखला, एक अर्थात्कार
 जिसमें किसी कारण से उत्पन्न कोई
 कार्य बाद में कहे हुए कर्मों का हेतु
 वर्णन करता है; -वादी—(पुं.) सम्पूर्ण
 सृष्टि के आदि कारण को स्वीकार
 करनेवाला; -विहीन—(वि.) कारण-
 रहित; -शरीर—(पुं.) आनन्दमय कोष,
 सुषुप्ति की अवस्था में वह कल्पित
 शरीर जिसमें शरीर की इन्द्रियाँ तो
 काम नहीं करती परन्तु हममें अहंकार
 आदि का संस्कार बना रहता है ।
 कारणा—(सं. स्त्री.) यातना, तीव्र वेदना,
 नरक-यंत्रणा ।
 कारणिक—(सं. वि.) परीक्षक, जांच
 करनेवाला ।
 कारकूस—(हि. पुं.) (अं. 'कार्टिज' का अप-
 भ्रंम) पीतल आदिकी एक नली जिसमें
 गोली, छर्रा तथा बाह्य भरी रहती है ।
 कारन—(हि. पुं.) कारण, कारण, प्रेरण-वाक्य;
 (मुहा.)—करना—जाह-दोना पराना ।
 कारनामा—(फा. पुं.) प्रसंगनीय काम ।
 कारनी—(हि. पुं.) प्रेरण, नेदना, नेदिया,
 ईश्वर ।
 कारपरदाज—(फा. वि.) काम में प्रवीण ।
 कारपरदाजी—(फा. स्त्री.) काम में
 प्रवीणता या कौशल, शब्द-भावुर्ग ।
 कारवन—(अं. पुं.) एक भौतिक गुण तत्व
 जो हीरा, लोहेके आदि में पर्याप्त मात्रा
 में; -वाहक—(पुं.) कारके अक्षरों के बाद
 वाक्य जिसे दो कारणी के बीच में रख
 कर किसी का वाक्य करने पर बीच
 वाले वाक्य पर राज डलर आती है ।
 कारवादी—(फा. वि.) कारवादी; (पुं.)
 कारवादी ।
 कारविता—(अ. वि.) हमारे को काम में
 लक्ष्य-प्राप्त ।
 कारवाही—(फा. स्त्री.) कारवाही; (पुं.)
 करने के लिये उद्योग-विधि का गुण ।
 कारवाह—(अ. वि.) कारवाही; (पुं.)
 कारवाही ।

कारागार, कारागृह—(सं. पुं.) बंदीगृह ।
 कारापाल—(सं. पुं.) बंदीगृह का रक्षक ।
 कारावास—(सं. पुं.) कारावास में बंद रहने की स्थिति, कैद ।
 कारावेश्म—(सं. पुं.) कारागार ।
 कारिक—(हिं. स्त्री.) करगृह का ताना ठीक करने की चिकनी लकड़ी ।
 कारिका—(सं. स्त्री.) अभिनेत्री, काम, विवरण, श्लोक, विशिष्ट कविता, बहु-अर्थवोधक शब्द, नटी, मर्यादा, सीमा, किसी सूत्र की श्लोकबद्ध व्याख्या, एक रागिणी ।
 कारिख—(हिं. स्त्री.) कालिमा, कालापन, काजल, कलंक, धब्बा ।
 कारिणी—(सं. स्त्री.) अपना काम करने-वाली स्त्री ।
 कारित—(सं. वि.) दूसरे के द्वारा कराया हुआ ।
 कारिता—(सं. स्त्री.) अधिक वृद्धि, अधिक व्याज ।
 कारी—(हिं. वि.) करनेवाला, बनानेवाला ।
 कारीगर—(फा. पुं.) दस्तकार, शिल्पी ।
 कारीगरी—(फा. स्त्री.) शिल्प, दस्तकारी, वारीकी ।
 कारु—(सं. पुं.) शिल्पी, शिल्पकार ।
 कारुणिक—(हिं. वि.) दयावान् ।
 कारुण्य—(सं. पुं.) करुणा, दया ।
 कारुनी—(हिं. पुं.) एक विशेष जाति का घोड़ा ।
 कारोँछ—(हिं. स्त्री.) कालिमा, घुएँ की कारिख, कारोँछ ।
 कारो—(हिं. वि.) देखें 'काला' ।
 कारोवार—(हिं. पुं.) कारवार ।
 कार्ड—(अं. पुं.) मोटे कागज का टुकड़ा ।
 कारिणिक—(सं. वि.) कान संबंधी ।
 कार्तवीर्य—(सं. पुं.) चन्द्रवंशी राजा कृतवीर्य का पुत्र, हेहय, सहस्रार्जुन ।
 कार्तिक—(सं. पुं.) जिस महीने में पूर्णमासी कृत्तिका नक्षत्रयुक्त रहती है, आश्विन और अश्विन के बीच का महीना;—शाली—(पुं.) कार्तिक के महीने में पकनेवाला धान ।
 कार्तिकेय—(सं. वि.) कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाला; (पुं.) पडानन ।
 कार्दम—(सं. वि.) पंजिल, कीचड़ से भरा हुआ ।
 कार्पट—(अं. पुं.) पुराने वस्त्र का टुकड़ा, चिपड़ा ।
 कार्पण्य—(सं. पुं.) कृपणता, कंजूसी ।
 कार्पास—(सं. पुं.) कपास का वृक्ष, रूई का पौधा ।

कार्पासिक—(सं. वि.) रूई का बना हुआ ।
 कार्मण—(सं. पुं.) जादू, टोना, मन्त्र-तन्त्रादि प्रयोग; (वि.) कर्मदक्ष, काम में चतुर;—त्व—(पुं.) जादू, टोना ।
 कार्मना—(हिं. पुं.) मन्त्र-तन्त्र का प्रयोग, कार्मण ।
 कार्मर—(सं. पुं.) कर्मकार, लोहार ।
 कार्मिक—(सं. वि.) कर्म में नियुक्त, काम में लगा हुआ, निर्मित, बनाया हुआ ।
 कार्मुक—(सं. पुं.) धनुष, धनुष के आकार का एक शस्त्र, चाप, वाँस, इन्द्रधनुष, नवीं राशि, रूई धुनने का यन्त्र, बकाइन, स्वच्छ खैर; (वि.) कार्यक्षम, कामकाजी ।
 कार्य—(सं. पुं.) कर्म, काम, कर्तव्य, व्यापार, धन्वा, हेतु, फल, प्रयोजन, परिणाम, उद्देश्य; (वि.) करने योग्य, कराया जानेवाला ।
 कार्यकर—(सं. वि.) काम चलानेवाला ।
 कार्यकर्ता—(सं. पुं.) कार्य या काम करने-वाला, कर्मचारी ।
 कार्यकारण—(सं. पुं.) मिला हुआ कार्य और कारण ।
 कार्यकारणभाव—(सं. पुं.) कार्य और कारण का संबंध, कारण और परिणाम की मिली हुई स्थिति ।
 कार्यकारी—(सं. पुं.) काम करनेवाला ।
 कार्यकुशल—(सं. वि.) काम करने में निपुण ।
 कार्यक्षेम—(सं. वि.) देखें 'कार्यकुशल' ।
 कार्यभ्रष्ट—(सं. वि.) काम से चूका हुआ ।
 कार्यवश—(सं. अव्य.) काम के कारण से ।
 कार्यशेष—(सं. पुं.) काम का अवशेष ।
 कार्यसम—(सं. पुं.) न्याय-मत के अनुसार चौबीस भ्रातियों के अन्तर्गत एक भ्राति ।
 कार्यसागर—(सं. पुं.) गुरुकार्य, बड़ा काम ।
 कार्यसाधक—(सं. वि.) काम पूरा करने-वाला ।
 कार्यसाधन—(सं. पुं.) कार्यसिद्धि, अभीष्ट सिद्धि ।
 कार्यहंता—(सं. वि.) काम बिगाड़नेवाला ।
 कार्यतिर—(सं. पुं.) अन्य कार्य, दूसरा काम ।
 कार्याधिकारी—(सं. पुं.) पदाधिकारी ।
 कार्याध्यक्ष—(सं. पुं.) देखें 'कार्याधिकारी' ।
 कार्यार्थ—(सं. अव्य.) काम के लिये ।
 कार्यार्थी—(सं. वि.) कार्य की सिद्धि चाहनेवाला ।
 कार्यालय—(सं. पुं.) कार्य का स्थान, आफिस, दफ्तर ।
 कार्यपण—(सं. पुं.) प्राचीन समय की एक मुद्रा ।
 कालंजर—(सं. वि.) मृत्यु-निवारक, मृत्यु-नाशक; (पुं.) एक पर्वत का नाम ।

काल—(सं. पुं.) लोहा, मृत्यु, महाकाल, समय, शनि ग्रह, शिव, विष्णु, यम, अवसर, दुर्भिक्ष, अकाल, महँगी, अन्तिम काल, कृष्णवर्ष, काला रंग, लाल चीते का वृक्ष; (हिं. अव्य.) कल ।
 कालकंठ—(सं. पुं.) शिव, महादेव, मयूर, मोर, खंजन पक्षी, जलकुवकुट, कौवा ।
 कालकारिणी—(सं. स्त्री.) दुर्भाग्य, दरिद्रता ।
 कालकर्मा—(सं. पुं.) मृत्यु ।
 कालकवि—(सं. पुं.) अग्नि, आग ।
 कालका—(सं. स्त्री.) कश्यप की पत्नी का नाम ।
 कालकुण्ड—(सं. पुं.) यम ।
 कालकूट—(सं. पुं.) एक भयंकर विप, हलाहल, वत्सनाग, बछनाग, एक पर्वत का नाम ।
 कालकूटक—(सं. पुं.) कुचले का वृक्ष, शिव ।
 कालकेतु—(सं. पुं.) एक राक्षस का नाम ।
 कालकेशी—(सं. स्त्री.) काले बालवाली स्त्री ।
 कालकोठरी—(हिं. स्त्री.) बन्दीगृह की एक संकुचित और अँधेरी कोठरी जिसमें एकांतिक कारावास वाले बंदी बन्द किये जाते हैं ।
 कालक्रम—(सं. पुं.) समय का प्रवाह ।
 कालक्रिया—(सं. स्त्री.) समय पर किया हुआ काम, समय का प्रभाव ।
 कालक्षेप—(सं. पुं.) समय का वीतना, समय नष्ट करना ।
 कालखंज—(सं. पुं.) यकृत ।
 कालखंड—(सं. पुं.) यकृत, कलेजा, कलेजे का एक रोग ।
 कालगंगा—(सं. स्त्री.) यमुना नदी ।
 कालगंडेत—(हिं. पुं.) काली चित्तियों-वाला सर्प ।
 कालगंध—(सं. पुं.) काला चन्दन, एक प्रकार का सर्प ।
 कालप्रथि—(सं. पुं.) वर्ष, साल ।
 कालग्रास—(सं. पुं.) मृत्यु ।
 कालचक्र—(सं. पुं.) समय का उलटफेर, एक अस्त्र विशेष ।
 कालज्ञ—(सं. पुं.) कुम्भकट, मुर्गा, ज्योतिषी; (वि.) उचित समय को जाननेवाला ।
 कालज्ञान—(सं. पुं.) ज्योतिष शास्त्र, उपयुक्त समय का ज्ञान, ठीक समय की पहिचान, मृत्युवोधक चिह्न, मरने का समय जान लेना ।
 कालतुल्य—(सं. वि.) मृत्यु के समान ।
 कालतुष्टि—(सं. स्त्री.) समयापेक्षा, सन्तोष, सांख्य मत के अनुसार समय आने पर स्वतः कार्यसिद्धि हो जाने का सिद्धान्त ।

कालत्रय—(सं. पुं.) मृत, नविष्य तथा वर्तमान काल ।
 कालदंड—(सं.पुं.) मृत्युदण्ड, मृत्यु का चपेटा ।
 कालदमनी—(सं. स्त्री.) मृत्यु-निवारिणी दुर्गा ।
 कालधर्म—(सं. पुं.) समयानुसार व्यवहार, नमय का स्वभाव, मृत्यु, विनाश, समय का काम ।
 कालनाग—(सं. पुं.) काला सर्प जिसके काटने से अवरय मृत्यु होती है ।
 कालनाथ—(सं. पुं.) महादेव, कालभैरव ।
 कालनाभ—(सं.पुं.) हिरण्यकशिपु का पुत्र ।
 कालनिधि—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 कालनिरूपण—(सं. पुं.) समय का स्थिर करना ।
 कालनिर्णय—(सं.पुं.) समय का निर्धारण ।
 कालनिज्ञा—(सं. स्त्री.) दीवाली की रात, मयंकर रात, अंबेरी रात ।
 कालनेमि—(सं. पुं.) रावण के मामा का नाम, एक राक्षस जिसने देवताओं को जीतकर स्वर्ग में अधिकार जमाया था; -रिपु—(पुं.) विष्णु, हनुमान् ।
 कालपक्व—(सं. वि.) अपने आप समय पर पकनेवाला ।
 कालपर्णी—(सं. स्त्री.) काली तुलसी ।
 कालपात्र—(सं. पुं.) समय का बर्धन, फाँसी, समय का वह नियम जिसके द्वारा भूत-प्रेत बंधे रहते हैं और किसी प्रकार का उपद्रव नहीं कर पाते ।
 कालपुरंद—(सं. पुं.) परमेश्वर का विराट रूप, यम ।
 कालप्रभात—(सं.पुं.) शरदृतु, वृषा दिन ।
 कालयंजर—(हि. पुं.) पुरानी परती, जो भूमि बहुत दिनों तक जोती-बोयी न गई हो ।
 कालयूत—(हि. पुं.) कल्पा भराव जिसके ऊपर मेहराव बनाई जाती है, काठ का साँचा, जूता सीने का मोची का फरमा, रस्ती बटने का उपकरण ।
 कालभक्ष—(सं. पुं.) महादेव, शिव ।
 कालभैरव—(सं. पुं.) शिव के मुख्य गणों में से एक ।
 कालमल्लिका—(सं. स्त्री.) काली तुलसी ।
 कालमहिमा—(सं. स्त्री.) समय का महात्म्य, समय की शक्ति ।
 कालमूर्ति—(सं. स्त्री.) यम-मूर्ति काल ।
 कालमेष—(सं. पुं.) एक पीया जो जोषण में प्रयुक्त होता है ।
 कालयवन—(सं. पुं.) कर्मों का एक राजा जिन्होंने सारा मे अराजक में दुःख दिया था ।

कालयापन—(सं. पुं.) नमय विनाश, कालक्षेप, निर्वाह ।
 कालयोग—(सं. पुं.) समय का दम, नाश ।
 कालर—(सं. पुं.) कमीज या कोट के गले में लगी हुई दुहरी पट्टी ।
 कालरात्रि—(सं. स्त्री.) प्रलयरात्रि जिसमें सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, अंबेरी और भयावनी रात, मृत्युमुचक रात्रि, दीवाली की रात, दुर्गा की एक मूर्ति, यम की बहिन, मनुष्य की आयु में ७७ वर्ष ७वें महीने ७वें दिन की रात, इसके बाद मनुष्य नित्य तथा नैमित्तिक कर्म से छुटकारा पाता है ।
 कालरूप—(सं. वि.) काल के सद्म, मृत्यु के समान ।
 कालवाचक, कालवाची—(सं. वि.) समय का ज्ञान करानेवाला, समय बतलानेवाला ।
 कालवृत्त—(सं. पुं.) कुलद्वय, कुलधी ।
 कालशुद्धि—(सं. स्त्री.) धूम काल, धूम कर्म सम्पादन करने का समय ।
 कालसार—(सं. पुं.) काला हिरण, काली तुलसी, हस्ताल, राम नाम की पोथी ।
 कालसिर—(हि.पुं.) नाव के मस्तूल का सिरा ।
 कालसूक्त—(सं. पुं.) वेद का एक सूक्त जिसमें काल का वर्णन किया गया है ।
 कालसूत्र—(सं. पुं.) फाँसी की रस्ती ।
 कालहर—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 कालहामि—(सं. स्त्री.) समय-शक्ति, व्यर्थ समय बिताना ।
 कालांजन—(सं. पुं.) एक तरह का गुरमा ।
 कालांतक—(सं. पुं.) यम, मृत्यु ।
 कालांतर—(सं. पुं.) दूसरा समय; -विष (पुं.) ऐसा विष जिसका प्रभाव कुछ समय बीतने के बाद होता है; (सं.)-नाग्य कुत्ता या गिरान के काटने का विष ।
 काला—(हि. वि.) लघु, कोयले के रंग का, कम्बुधित, धरा, प्रचण्ड, नारी, कालमर्ष, कालगर्भा; (गुहा.) मृत जाला करना-अपमानित करना, पाप करना, व्यभिचार करना; मृत जाला होना-कलङ्कित होना ।
 कालाकंद—(हि. पुं.) एक प्रकार का अम-हृनिया घास ।
 काला-कल्लूज—(हि. वि.) अमय कल्लूज-सर्प, काला काले रंग का ।
 कालाकण्ट—(सं. वि.) महाभाग में पाया हुआ, मृत्यु के संकेत में होता है ।
 कालाकर्म—(सं. वि.) विराट का एक रूप-भाग ।

कालाग्नि—(सं. पुं.) प्रलय काल की अग्नि, धूम अग्नि के अधिष्ठाता रुद्र, पंचमुनी रुद्राक्ष ।
 कालाचौर—(हि. पुं.) ननुर चौर, का-पुण्य, गुरा बादमी ।
 काला जीरा—(हि. पुं.) स्वाह जीरा, एक प्रकार का घान ।
 कालातिरम (प)—(सं. पुं.) नमय का बीतना, अदसर जाने देने का कार्य ।
 कालातिरेक—(सं. पुं.) निरिष्ट नमय का बीतना ।
 कालातीत—(सं. वि.) जिसका समय टप गया हो, जो अपना नमय बिताना नका हो; (पुं.) न्याय मत के अनुसार पाँच प्रकार के हेत्वानासों में से एक, मिथ्या तर्क, मलाया, अनुचित न्याय में नाथ्य के आधार में नाथ्य का अभाव काला-तीत कहलाता है । उसे हेत्वामास से बाधित भी कहते हैं ।
 कालात्वक—(सं.पुं.) काल-स्वरूप परमेश्वर ।
 कालात्वय—(सं.पुं.) समय हो गप्ट करना ।
 काला दाना—(हि. पुं.) एक प्रकार की लता जिसमें नीला फूल होता है, इनके फूल के बीज रेश्म होते हैं ।
 कालाध्यत—(सं. पुं.) युग ।
 काला नमक—(हि. पुं.) गान्धर लवण ।
 कालानाग—(हि. पुं.) काला नग, घुटिल मनुष्य ।
 कालाग—(सं. पुं.) नग का फल, रासन ।
 काला पहाड़—(हि.पुं.) अत्यंत गंभीर रस्तु ।
 काला पान—(हि.पुं.) नाम में दूध का रंग ।
 काला पानी—(हि. पुं.) देवों में निर्गल जाने का दण्ड, अंशमान और निर्गलदार दण्ड जहाँ पर आजीवन पैर के धँसे भेजे जाते हैं, मय ।
 कालापोन—(हि.वि.) काला रस-कालिंदी ।
 कालाभयंज—(हि.वि.) अमय का रंग-रंग ।
 कालाध—(सं.पुं.) यम-भयंज का रंग-रंग ।
 काला मोहरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का रंग-रंग ।
 कालाभन—(सं. पुं.) काला भेद ।
 कालाभरि—(सं. पुं.) काला भयंज ।
 कालाभर—(सं. पुं.) एक मायाविद्या का रंग-रंग ।
 कालि—(सं. वि.) कालि रंग-रंग ।
 कालि रंग—(सं. पुं.) कालि रंग-रंग ।
 कालि रंग—(सं. पुं.) कालि रंग-रंग ।
 कालि रंग—(सं. पुं.) कालि रंग-रंग ।

कालिद-(सं.वि.) कालिद पर्वत या कालिदी नदी से संबद्ध ।

कालिदी-(सं. स्त्री.) (कालिद पर्वत से निकलनेवाली) यमुना नदी ।

कालि-(हि. अव्य.) बीता हुआ दिन, आगामी दिन, कल ।

कालिक-(सं. वि.) काल सम्बन्धी, समयोचित, सामयिक ।

कालिका-(सं. स्त्री.) काली, चंडी, कृष्णता, कालिमा, मादा कौआ, जटामासी, बादलों की पंक्ति, श्रुगाली, दूध का कीड़ा, मसी, मद्य, कुहरा, सुवर्ण का दोष, काकड़ासिंगी, विछुआ पौधा, ककड़ी की लता, नील का पौधा, विच्छू; -पुराण-(पुं.) एक पुराण जिसमें कालिका देवी के माहात्म्य का वर्णन है ।

कालि काला-(हि. अव्य.) कदाचित्, किसी समय ।

कालिख-(हि. स्त्री.) कालिमा, कलौंछ, धुएँ की जमी हुई बुकनी; (मुहा.) मुँह में कालिख लगना या लगाना-ऐसा अपमानित होना या करना कि किसी को मुँह दिखलाने योग्य न रह जाना ।

कालिदास-(सं.पुं.) भारत के अति प्रसिद्ध प्राचीन महाकवि का नाम ।

कालिनी-(सं. स्त्री.) श्राद्धा नक्षत्र ।

कालिमा-(सं. स्त्री.) कालापन, मलिनता, मैल, कलक, दोष, लांछन ।

कालिय-(सं. पुं.) एक सर्प जिसको श्रीकृष्ण ने अपने वश में किया था, कलियुग; (वि.) काल संबन्धी; -दमन-(पुं.) श्रीकृष्ण ।

काली-(सं. स्त्री.) दुर्गा, पार्वती, कालिका, दय महाविद्याओं में से एक, अग्नि, रात्रि, घटा, काली औरत, निन्दा, काला वेंट, कान्हा जीरा ।

काली आँवी-(हि. स्त्री.) वह आँवी जिसमें चारों ओर अँवैरा छा जाय ।

कालीक-(सं. पुं.) कौंच पक्षी, एक प्रकार का बकुला ।

काली घटा-(सं. स्त्री.) उमड़ते हुए काले बादल ।

काली जयान-(हि. स्त्री.) अशुभ भाषा, वत् जिहा जिससे उच्चारित किया हुआ अशुभ वाक्य तच्चा निकल जावे ।

काली जीरी-(सं. स्त्री.) छोटी जीरी, एक औषधि ।

कालीका-(हि. पुं.) वृन्दावन में यमुना का वह स्थान जिसमें कालिया नाग रूखा था ।

कालोन-(सं. वि.) काल संबन्धी, (समासान्त में) काल या युग का, काल से संबद्ध; यथा-पूर्वकालीन, उत्तरकालीन, बहुकालीन इत्यादि; (अ.पुं.) बड़ा या बढ़िया गलीचा ।

काली पुराण-(सं.पुं.) एक उपपुराण जिसमें काली-विषयक वर्णन किया हुआ है ।

काली मिर्च-(हि. स्त्री.) मिरिच, गोल मिर्च ।

कालीयक-(सं. पुं.) एक पीले रंग का सुगंधित काष्ठ, पीला चंदन, अगरु ।

काली शीतला-(हि. स्त्री.) शीतला या चेचक रोग जिसमें शरीर पर काले दाने निकलते हैं ।

कालुष्य-(सं. पुं.) कलुपता, मैल ।

कालिय-(सं. पुं.) सूर्य, शिव, महादेव ।

कालेश-(सं. पुं.) काला चंदन, दारु-हल्दी, कुकुरमुत्ता, अगरु ।

कालोत्पादित-(सं.वि.) यथासमय उत्पन्न ।

कालोपयुक्त-(सं.वि.) यथासमय आवश्यक ।

कालौंछ-(हि. स्त्री.) कृष्णवर्ण, कालापन, धुएँ की कालिख, काला जाला ।

काल्पनिक-(सं. वि.) कल्पना से उत्पन्न, कल्पित, माना हुआ ।

काल्य-(सं. वि.) प्रातःकाल किया जानेवाला ।

काल्ह, काल्हक-(हि. अव्य.) देखें 'कल' ।

कावर-(हि.पुं.) एक अस्त्र विशेष, छोटा बरछा ।

कावरी-(हि. स्त्री.) रस्से का फन्दा, मुद्धी ।

कावा-(फा. पुं.) थोड़े का चक्कर, वृत्त; (मुहा.)-काटना-चक्कर मारना, किसी परिस्थिति से बचने के लिए चक्कर काटना ।

कावेर-(सं. पुं.) कुंकुम, रोरी ।

काव्य-(सं. पुं.) कविता, कविता-ग्रन्थ, रस-

युक्त वाक्य, मीठी बोली, कुशल-क्षेम, वृद्धिमान्नी, चित्त में विशेष आनन्द लानेवाले वाक्य, मनोहर तथा चमत्कारी वाक्य-रचना; (वि.) कवि के गुण रखनेवाला, कविता-संबन्धी; -चोर-(पुं.) दूसरे के रचे हुए काव्य को अपना बतलानेवाला; -लिंग-(पुं.) वह अर्वा-लंकार जिसमें कोई कही हुई बात का कारण वाक्य अथवा पद के द्वारा दिख-

लाया जाता है; -सुधा-(स्त्री.) काव्यरूप श्रमृत, बहुपरम आनन्द जो काव्य सुतन पर होता है; -हास्य-(पुं.) प्रहसन ।

काव्यार्थोपपत्ति-(सं. स्त्री.) अर्थोपपत्ति नामक अलंकार, देखें 'अर्थोपपत्ति' ।

काश-(सं. पुं.) एक प्रकार की घास, कांस, क्षय, खाँसी का रोग ।

काशिका-(सं. स्त्री.) काशी, जयादित्य और वामन की बनाई हुई पाणिनीय व्याकरण की एक वृत्ति का नाम; (वि. स्त्री.) चित्त को परम शान्ति देनेवाली, प्रकाश करनेवाली, प्रदीप्त ।

काशिकंड, काशीखंड-(सं. पुं.) स्कन्द-पुराण का एक उपपुराण ।

काशिप-(सं. पुं.) शिव, महादेव, काशी के राजा ।

काशी-(सं. स्त्री.) वाराणसी, बनारस ।

काशीकरवट-(हि. पुं.) इस नाम का एक तीर्थ जो काशी में है जहाँ पुराने समय में लोग आरे के नीचे जाकर अपना प्राण देना मुक्तिकारक समझते थे ।

काशीश-(सं. पुं.) देखें 'काशिप' ।

काशिय-(सं. वि.) काशी में उत्पन्न ।

काश्मरी-(सं. स्त्री.) गंभारी नामक वृक्ष जिसकी जड़ औषधि में प्रयुक्त होती है ।

काश्मीर-(सं. पुं.) एक देश का नाम, देखें 'कश्मीर'; (वि.) कश्मीर में उत्पन्न, कश्मीर में उपजनेवाला ।

काश्मीरा-(हि. पुं.) मोटे ऊन से तैयार किया हुआ वस्त्र ।

काश्मीरी-(हि. वि., पुं., स्त्री.) कश्मीर देशवासी, इस देश की भाषा, कश्मीर देश संबन्धी ।

काश्यप-(सं. पुं.) कणाद ऋषि, एक गोत्र विशेष; (वि.) कश्यप संबन्धी ।

काश्यपि-(सं. पुं.) सूर्य के सारथि अरुण, गरुड़ ।

कापाय-(सं. वि.) कपाय (गेरु) से रंगा हुआ, गेरुआ ।

काष्ठ-(सं. पुं.) लकड़ी, काठ, ईंधन, जलाने की लकड़ी ।

काष्ठपुष्पा-(सं. स्त्री.) केतकी का पौधा ।

काष्ठफलक-(सं. पुं.) लकड़ी का पट्टा ।

काष्ठभूत-(सं. वि.) लकड़ी की तरह कड़ा और निर्जीव ।

काष्ठलेखक-(सं. पुं.) धुण, धून ।

काष्ठा-(सं. स्त्री.) स्थिति, अवधि, सीमा, उत्कर्ष, वड़ाई, कश्यप की स्त्री, हलदी, १५ निमिष का काल, चन्द्रमा की एक कला, दिशा, ओर ।

काष्ठागर-(सं. पुं.) लकड़ी का घर ।

काष्ठासन-(सं. पुं.) लकड़ी की चौकी, पीड़ा इत्यादि ।

कास-(सं. पुं.) खाँसी, कफ, एक घास, कांस ।

कासनी-(हि. स्त्री.) एक पीथा जो औषधियों में प्रयुक्त होता है, नीला रंग।
 कासर-(सं. पुं.) काली भेड़ जिसके पेट के रोत्रे लाल होते हैं, भैंसा।
 कासा-(हि. पुं.) दरियाई नारियल का पात्र जो गिक्षुक रखते हैं, कटोरा, प्याला।
 कासार-(सं. पुं.) बड़ा तालाब, झील, ताल, एक प्रकार का दण्डक वृक्ष।
 कासीस-(सं. पुं.) उपघातु, कसीस, तुल्य, तूतिया।
 काह-(हि. अव्य.) क्या, कौन-सी (वस्तु)।
 काहि-(हि. सर्व.) किसको, किसे।
 काहिल-(अ. वि.) सुस्त, आलसी, कामचोर।
 काहिली-(अ. स्त्री.) सुस्ती, आलस्य।
 काही-(हि. अव्य.) पास, द्वारा।
 काही-(हि. वि.) घास के रंग का, काले-हरे रंग का।
 काहु, काहू-(हि. सर्व.) किसीको।
 काहू-(हि. अव्य.) क्यों, किस लिये, किस निमित्त।
 कि-(सं. अव्य.) क्या।
 किक्कणी-(सं. स्त्री.) छोटा घुंघरू।
 किकर-(सं. पुं.) दास, नौकर, भृत्य।
 किकरी-(सं. स्त्री.) दासी, नौकरानी।
 किकर्तव्यता-(सं. स्त्री.) यह चिन्ता कि क्या करना होगा।
 किकर्तव्यविमूढ़-(सं. वि.) कर्तव्य का निश्चय करने में असमर्थ, भौचक्का, व्यग्र, घबड़ाया हुआ।
 किक्किनी-(सं. स्त्री.) कमर का आभूषण, करधनी, लड़ाई का एक अस्त्र।
 किक्किर-(सं. पुं.) हाथी का मस्तक, भोरा, लोथल, घोड़ा, कामदेव।
 किक्किरी, किक्किरी-(हि. स्त्री.) छोटी सारंगी के धाकार का एक वाजा।
 किक्किरी-(हि. पुं.) एक प्रकार की झाड़ी।
 किक्किन्-(सं. वि.) कुद्ध, घोड़ा।
 किक्किन्नात्र-(सं. वि.) अत्य, परिमित, घोड़ा-सा।
 किज, किजल, किजल्क-(सं. पुं.) कमल का केसर।
 किजु-(सं. अव्य.) केलिन, परन्तु, बल्कि।
 किजुल्क-(सं. पुं.) किजर, नील मनुष्य।
 किजुली-(हि. स्त्री.) जलप्रवाह।
 किजुल-(सं. अव्य.) मानी, अस्मा।
 किजुल्क-(सं. पुं.) पञ्चम का तुल्य, दण्ड, दण्डू।
 कि-(हि. अव्य.) कि, किन प्रकार, क्या यह संशयक पदः जो विचारों के वाक्य प्रदान होता है, प्रसन्न, वा. तदर्थक।

किक्कियाना-(हि. क्रि. अ.) रोना, चिल्लाना।
 किक्किकिक्क-(हि. स्त्री.) झूठा झगड़ा, व्यर्थ की बकवाद।
 किक्किकिचाना-(हि. क्रि. अ., स.) क्रोध से दाँत पीसना, पूरा बल लगाना, क्रुद्ध होना।
 किक्किकिचाहट-(हि. स्त्री.) क्रोध, गुस्सा, क्रोध में दाँत-पिसाई।
 किक्किकिची-(हि. स्त्री.) किक्किकिचाहट, क्रोध।
 किक्किकिचाना-(हि. क्रि. अ.) आँखों में कीचड़ आना।
 किक्किकिच-(हि. वि.) क्रमरहित, अस्पष्ट।
 किक्किकिचर-(हि. वि.) देखें 'किक्किकिच'।
 किक्किकिट-(हि. पुं.) वादविवाद, झंझट, झगड़ा।
 किक्किकिटाना-(हि. क्रि. अ., स.) दाँत पीसना, किक्किकिचाना, (खाते समय) दाँतों के नीचे कंकड़ पड़ना।
 किक्किकिना-(हि. पुं.) वह लिखित पत्र जिसके द्वारा ठीकदार अपना ठेका दूसरे के नाम कर देता है, सोनार का ठप्पा, चतुराई; -(ने)दार-(पुं.) वह व्यक्ति जो ठेकेदार से ठेके पर कुछ लेता हो; -(ने)वाज-(वि.) मितव्यय या चतुराई से काम करनेवाला।
 किक्किकिना-(हि. पुं.) देखें 'किक्किकिना'।
 किक्किकिन्-(सं. पुं.) बालों में काजू।
 किक्किकि, किक्किकि-(सं. पुं.) धातु का मैल, मोरचा, कोट, कान का खूंट।
 किक्किकिना-(हि. क्रि. अ.) चल देना, चित्त जाना।
 किक्किकिड़ाना-(हि. क्रि. अ., स.) किक्किकिचाना, दाँतों तले लगना (कंकड़ों)।
 किक्किकि-(सं. पुं.) मांस-प्रस्थि, घट्टा, घुन।
 किक्किकि-(हि. अव्य.) कहीं, किस ओर, किजर।
 किक्किकि-(हि. अव्य.) कितना।
 किक्किकिना-(हि. वि.) किन् मात्रा, परिमाण या संख्या का; (अव्य.) किन् मात्रा या परिमाण में, कहीं तक, बहुत अधिक या ज्यादा।
 किक्किकिने-(हि. वि.) 'कितना' का बहु रूप।
 किक्किकिन्-(सं. पुं.) ज्वारी, दृष्ट, बंचा, पूर्ण, कुट्ट।
 किक्किकिन्-(अ. स्त्री.) प्रसन्न, मुग्धक, बोधो, हिवाय की बत्ती।
 किक्किकिन्वी-(हि. वि.) किक्किकिने से मुग्ध, मुग्धारीय, अस्मावोकिना-सोड़ा-(पुं.) किक्किकिने को चोट कर का कार्यवाही, सोड़ा, सदा चोटिलता, परिचित, अस्मावोकिना स्थिति।

किक्किकि, किक्किकि-(हि. वि.) कितना, बहुत, अंतरय।
 किक्किकि-(हि. पुं.) पुस्तक, धर्मग्रन्थ।
 किक्किकि-(हि. अव्य.) कहीं।
 किक्किकि-(हि. वि.) देखें 'कितना'।
 किक्किकि-(हि. वि.) कितना।
 किक्किकि-(हि. स्त्री.) कौन, बड़ाई, पय।
 किक्किकि-(हि. अव्य.) कहीं, किस ओर; (मुहा.)-से चाँद निकला?-कहाँ से मूलकर आ पड़े? (किमी मित्र के बहुत दिनों के बाद आगमन पर उत्सुकता)।
 किक्किकि-(हि. अव्य.) अपवा, या, न जाने।
 किक्किकि-(हि. सर्व.) 'किन्' शब्द का बहुवचन; (अव्य.) क्या नहीं, अवश्य क्यों न; (पुं.) खड़ा का चिह्न।
 किक्किकिना-(हि. पुं.) कण, अनाज का टुकड़ा।
 किक्किकिना-(हि. वि.) कृमिमुक्त, पीड़ा पड़ा हुआ।
 किक्किकिना-(हि. पुं.) देखें 'किक्किकिना'।
 किक्किकिन्दार-(हि. वि.) जिग चरम में किक्किकिना लगा हो।
 किक्किकिनेच-(हि. पुं.) बत्ती के ताने की मोटी डोरी।
 किक्किकिना-(फा. पुं.) नदी का तट, तीर, हाथिया, छोर, गोटा; -कसी-(स्त्री.) किक्किकिना सींचना, दूर या बचकर चित्तक जाना; (मुहा.)-सरना, -सोचना-अलग होना, दूर होना; -कन होना-किक्किकिना सींचना।
 किक्किकिनी-(हि. स्त्री.) मुग्धता या एहला गोटा, गोटा।
 किक्किकिने-(हि. अव्य.) कौर, भीमा या तट पर, पृथक् या अलग।
 किक्किकिने-(सं. पुं.) देवदोषि विरोध, एनका शरीर मनुष्य के समान पर गिर पड़े के जैसा होता है, मान-बचान-वादी एक जाति; किक्किकिने, नील चित्तार वाज्य मनुष्य।
 किक्किकिने-(सं. स्त्री.) किक्किकिने की स्त्री, एक प्रकार का कपड़ा।
 किक्किकिनिन्-(सं. अव्य.) किक्किकिने, किक्किकिने।
 किक्किकिनेत्त-(अ. स्त्री.) कर्मवर्ती, कर्म, सोच-सुच; -कन-कन कन कन, कनक।
 किक्किकिनी-(सं. वि.) किक्किकिने से कनक।
 किक्किकिने-(सं. अव्य.) कन, सोच-सुच।
 किक्किकिने-(सं. पुं.) सोई बत्ती।
 किक्किकिने-(सं. पुं.) कन प्रवाह का नाम किक्किकिने, कन, किक्किकिने-किक्किकिने (सं. अव्य.) कनक।

किमर्थम्—(सं. अव्य.) किस कारण, क्यों, किन लिये।

किमाट—(हि. पुं.) केवांच।

किमि—(हि. अव्य.) किस ढंग से, कैसे, किस प्रकार से।

किमु—(सं. अव्य.) क्यों, किस लिये।

किमुत—(सं. अव्य.) क्यों, अथवा या बहुत।

किम्मत—(हि. स्त्री.) चातुरी।

कियत्—(सं. अव्य.) किस परिमाण में, कितना।

कियारी—(हि. स्त्री.) खेतों या बगीचों में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर छोटी-छोटी भेड़ों के बीच की भूमि जिसमें बीज या पौधे बोये जाते हैं, क्यारी, बड़ा कड़ाहा जिसमें समुद्र का खारा पानी जमने के लिये रखा जाता है, उटिया, चारपाई, चौका।

कियाह—(सं. पुं.) लाल रंग का घोड़ा, सियारा

किरंटा—(हि. पुं.) छोटे दरजे का किस्तान, किरानी।

किरक—(सं. पुं.) लेखक, लिखनेवाला, कातिव।

किरका—(हि. पुं.) कंकड़, किरकिरी, छोटा टुकड़ा।

किरकिटी—(हि. स्त्री.) देखें 'किरकिरी'।

किरकिन—(हि. पुं.) गदहे या घोड़े का चमड़ा।

किरकिरा—(हि. वि.) कँकरीला, कंकड़दार, जिसमें छोटे-छोटे कड़े रवे हों, बुरा; (मुहा.)—होना—आनन्द में विघ्न पड़ जाना।

किरकिराना—(हि. क्रि. अ.) पीड़ा देना, दुःखना, बुरा लगाना, अच्छा न लगाना, किटकिटाना।

किरकिराहट—(हि. स्त्री.) आँस में धूल इत्यादि पड़ने की पीड़ा, दाँतों के तले कंकड़ पड़ जाने का शब्द, कँकड़ीलापन।

किरकिरी—(हि. स्त्री.) धूल या तिनके का छोटा टुकड़ा, अपमान, हेठो।

किरकिल—(हि. पुं.; स. कृष्णलास) गिरगिट, शरीर में की एक वायु जो छोक लाती है।

किरकी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का आभूषण।

किरन—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की पतली तलवार जो नोंक के बल गोंकी जाती है, नोंकदार टुकड़ा।

किरचिया—(हि. पुं.) दगुले के समान एक पक्षी।

किरची—(हि. स्त्री.) रेशम का रुच्छा।

किरण—(सं. स्त्री.) किरन, सूर्य की रश्मि, मकान, प्रकाश।

किरणाली—(सं. पुं.) सूर्य।

किरल—(हि. स्त्री.) किरण, प्रकाश की रंग, शालर, उद्योति, कदाचित् भी जाकर जो कालों में गमई जाती है;

(मुहा.)—फूटना—सूर्योदय होना।

किरपा—(हि. स्त्री.) देखें 'कृपा'।

किरपान—(हि. पुं.) देखें 'कृपाण'।

किरम—(हि. पुं.) कृमि, कीड़ा।

किरमई—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की लाह।

किरमाल—(हि. पुं.) खड्ग, तलवार, अमलतास का वृक्ष।

किरमिच—(हि. पुं.) एक प्रकार का महीन टाट या मोटा ठस बिना हुआ कपड़ा। (यह जूते, परदे, थैले इत्यादि बनाने के काम में आता है।)

किरमिज—(हि. पुं.) एक प्रकार का रंग, मटमैले रंग का घोड़ा।

किरमिजी—(हि. वि.) मटमैले करौं-दिया रंग का।

किरयात—(हि. पुं.) किरात, चिरायता।

किरराना—(हि. क्रि. अ.) दाँत पीसना, श्रवण करना, किरकिर शब्द करना।

किरवान, किरवार—(हि. पुं.) कृपाण।

किराँची—(हि. स्त्री.) अनाज, मूसा, इत्यादि लादने की चौपहिया गाड़ी, रेलगाड़ी का माल लादने का डब्बा।

किरात—(सं. पुं.) एक प्राचीन जंगली जाति, व्याव वहेलिया; (हि. स्त्री.) रत्न इत्यादि तौलने का एक परिमाण जो चार जव के बराबर होता है, अंग्रेजी आउन्स का चौबीसवाँ भाग।

किरातार्जुनीय—(सं. पुं.) कवि भारवि-कृत एक महाकाव्य।

किरातिनी—(सं. स्त्री.) किरात की स्त्री, जटामासी।

किराना—(हि. पुं.) प्रतिदिन के उपयोग में आनेवाली चीजें मसाले आदि जो पँसारियों दुकान पर विकते हैं; (क्रि. स.) पछोरना, सूप से बनाना या स्वच्छ करना।

किरानी—(हि. पुं.) लिपिक, करंटा, दोगला, यूरोपियन।

किराया—(हि. पुं.) दूसरे के मकान में रहने या सवारी में यात्रा करने आदि के लिए मकान-मालिक या सवारीवाले को उपभोग कर्ता द्वारा दिया जानेवाला धन, भाड़ा; (मुहा.)—उतारना—मकान आदि का भाड़ा बनूल करना।

किरायदार—(हि. पुं.) किराये पर उपभोग करनेवाला।

किरायेदारी—(हि. स्त्री.) किराये पर देने या लेने की क्रिया या स्थिति, किराये पर देने तथा लेनेवाले के बीच होनेवाला इकरारनामा या लिखापट्टी।

किराय—(हि. पुं.) मटर।

किरावल—(हि. पुं.) लड़ाई के मैदान में आये जानेवाली फौज, बन्दूक से आखेट करनेवाला मनुष्य।

किरासन—(हि. पुं.) (अं. 'केरोसीन' का अपभ्रंश) मिट्टी का तेल।

किरिच—(हि. स्त्री.) नोकदार टुकड़ा, देखें 'किरच'।

किरिन—(हि. स्त्री.) देखें 'किरण'।

किरिम—(हि. स्त्री.) देखें 'कृमि'।

किरिमदाना—(हि. पुं.) किरमिज नाम का कीड़ा जो थूहर के पेड़ पर फैल जाता है। (सुखाकर इसका रंग बनाया जाता है।)

किरिया—(हि. स्त्री.) शपथ, कसम, सौगन्ध, कर्तव्य, काम, मृतक-कर्म।

किरीट—(सं. पुं.) एक प्रकार का सिर का भूषण, मुकुट, कुसुम का वृक्ष, एक छन्द जिसमें केदल भ्रमण रहते हैं, व्यापारी।

किरीटमाली, किरीटी—(सं. पुं.) अर्जुन, किरीटधारी।

किरीरा—(हि. स्त्री.) क्रीडन।

किरोर—(हि. पुं.) देखें 'करोड़'।

किरोलना—(हि. क्रि. स.) कतरना, खुरचना।

किरोना—(हि. पुं.) कृमि, कीड़ा।

किर्च—(हि. स्त्री.) देखें 'किरच'।

किर्तनिया—(हि. पुं.) कीर्तन करनेवाला।

किर्मिज—(हि. पुं.) एक प्रकार का रंग, किरमिज, किरमिजी रंग का घोड़ा।

किर्मा—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घातु पर खोदने की छेनी।

किल—(सं. अव्य.) वास्तव में, सचमुच, संभवतः, अर्थात्।

किलक—(हि. स्त्री.) हर्षव्वनि, प्रसन्नता का शब्द, आनन्द; एक प्रकार का नरकट जिसकी लेखनी बनाई जाती है।

किलकना—(हि. क्रि. अ.) हर्षव्वनि करना, किलकार मारना।

किलकार—(हि. स्त्री.) हर्षव्वनि।

किलकारना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'किलकना'।

किलकारी—(हि. स्त्री.) देखें 'किलकार'।

किल्किचित्—(सं. पुं.) श्रृंगार—भाव-जन्य क्रिया, नायक के समागम से अति प्रसन्न होकर नायिका द्वारा अल्प-हास, रोदन, भय, श्रवण इत्यादि भाव मिश्रित रूप से दिखलाना है।

किलकिट—(हि. स्त्री.) विवाद, झगड़ा।

किलकिला—(सं. स्त्री.) हर्षव्वनि, किलकार, वीरों की ललकार; (हि. स्त्री.) मञ्जली रानेवाला एक पक्षी; (पुं.) समुद्र का वह भाग जहाँ लहरें भयंकर बन्द करती हैं।

किलकिलाना—(हि. क्रि. अ.) हर्षव्वनि

करना, चिल्लाना, कोलाहल करना, वाद-विवाद करना, झगड़ना, क्रोध करना, खुजलाना।

किलकिलहट-(हि. स्त्री.) हर्षध्वनि खुजली, क्रोध, विवाद, झगड़ा।

किलकी-(हि. स्त्री.) बड़ई का चिह्न लगाने का एक औजार।

किलकैया-(हि. पुं., वि.) पशुओं के खुर में कीड़े पड़ने का रोग, हर्षध्वनि करने वाला, किलकनेवाला।

किलटा-(हि.पुं.) एक प्रकार का टोकरा।

किलना-(हि.क्रि.अ.) नियन्त्रित होना, बश में लाया जाना, गति में रुकावट होना, कोला जाना।

किलनी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कीड़ा जो मवेशियों के शरीर पर चिपका रहता है और इनका लोह चूसता है।

किलबिलाना-(हि. क्रि.अ.) कुलबुलाना, धीरे-धीरे रेंगना, इधर-उधर डोलना।

किलभी-(हि.पुं.) नाव का पिछला भाग।

किलवाँक-(हि. पुं.) एक प्रकार का कावुली घोड़ा।

किलवा-(हि. पुं.) भूमि खोदने का बड़ा फावड़ा।

किलवाई-(हि. स्त्री.) सूखी घास बटोरने की फस्ही।

किलवाना-(हि.क्रि.स.) कोल लगवाना।

किलवारी-(हि.स्त्री.) पतवार, छोटा डाँडा।

किलबिप-(हि. पुं.) किल्विप, पाप।

किलहंदा-(हि. पुं.) सिरोंही पक्षी।

किलहा-(हि. पुं.) तेल म बनाया हुआ आम का बच्चा।

किला-(अ.पुं.) वह लंबी-चौड़ी इमारत जिसके भीतर सैनिक रहते हैं और जो विविध रक्षात्मक उपायों द्वारा बाहरी आक्रमण से सुरक्षित होता है, शतरंज के खेल में बादशाह के लिए यह से बचने का स्थान; (मुहा.)-बाँधना- शतरंज में बादशाह के इर्द-गिर्द मोहरों को इस प्रकार राना कि जल्दी शह न पड़े।

किलत-(मं. वि.) वामन, बीना, छोटा।

किलाना-(हि.क्रि.सं.) देखें 'किलवाना'।

किलाना-(हि.पुं.) मोनार का एक औजार या उपकरण।

किलज-(सं.पुं.) पतली पट्टी, चटाई, परदा।

किलिन-(हि. पुं.) नाव का पिछला भाग जहाँ पर मुझे हुए पठने लगे हैं।

किलिनी-(हि. स्त्री.) देवे 'किलनी'।

किलेदार-(अ.पुं.) शिल्प में स्थित मेला का प्रधान अधिकारी, क्रिमेडियर।

किलेदारी-(अ. स्त्री.) किलेदार का पद।
किलेबंदी-(अ. स्त्री.) किसी स्थान को सैनिक प्रतिरक्षात्मक उपायों से संरक्षित करना।

किलोमीटर-(अं. पुं.) दूरी को १/१००० मील के बराबर नाप।

किलोल-(हि. पुं.) देखें 'कल्लोल'।

किलोनी-(हि. स्त्री.) देखें 'किलनी'।

किल्ला-(हि. पुं.) मेख, खंटा, जांति की मेख, अंकुर; (मुहा.)-गाड़कर बैठना-अटल होकर बैठना।

किल्लाना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'किल-किलाना', कल्लोल करना।

किल्ली-(हि. स्त्री.) कोल, मेख, खंटी, सिटकनी, विल्ली, मुठिया जिसके घुमाने से कल चलता है; (मुहा.)-एँठना या घुमाना-युक्ति लगाना; -हाथ में होना-किसी का वज्र में होना।

किल्विप-(सं. पुं.) पाप, अपराध, रोग।

किल्विपी-(सं. वि.) पापी, अपराधी।

किवाँच-(हि. पुं.) केवाँच।

किवाड़-(हि. पुं.) कपाट, द्वार का पल्ला; (मुहा.)-देना-दरवाजा बंद करना; -बंद हो जाना-घर छोड़कर गृहवासियों का रोजी के लिए परदेश चला जाना; घर के सब आदमियों का मर जाना।

किशटा-(हि.पुं.) एक प्रकार का शफ्टालू।

किशमिश-(हि. स्त्री.) सुगन्धा हुआ छोटा अंगुर।

किशमिशी-(हि. वि.) किशमिश का, एक तरह का रंग।

किशल, किशल्य-(मं. पुं.) कोमल, कोमल नया पत्ता।

किशोर-(मं. पुं.) घोड़े का बच्चा, नुन, तरुण अवस्था, ग्यारह से पन्द्रह वर्ष के बय का बालक, मिगु, लड़का; (वि.) छोटे बय का।

किशोरी-(सं. स्त्री.) ग्यारह से पंद्रह वर्ष के बय की स्त्री।

किस्त-(फा. स्त्री.) शतरंज के खेल में बादशाह को मार लगाना।

किस्ती-(फा. स्त्री.) नाव, जौंगी।

किस्किव-(मं. पुं.) एक पर्वत का नाम।

किस्किस्त-(मं. स्त्री.) देवे 'किस्किव'।

किस्त-(हि. सर्व.) 'कीस' का शतकृत जो किश्तित लगाने से का रूप बनाया जाता है।

किस्तबंदी-(हि.स्त्री.) इतिहास का नाम।

किस्तमिस्त-(हि. स्त्री.) देवे 'किस्तमिस्त'।

किस्तल, किस्तलय-(हि.पुं.) देवे 'किस्तलय'।
किस्तान-(हि. पुं.) लुधक, गेतिहर।
किस्तानी-(हि. स्त्री.) कृषिकर्म, खेती का काम; (वि.) कृषि-सम्बन्धी।
किस्ती-(हि. सर्व., वि.) 'कीस' का वह हफात्तर जो किश्तित लगाने में इसको प्राप्त होता है।

किस्तू-(हि. सर्व.) देखें 'किस्ती'।

किस्त-(अ. स्त्री.) अंश, भाग; (देन, लगान, मालगुजारी, कृष्य आदि का) नामयित देय-धन; -खिलाफी-(स्त्री.)

किस्त नियत समय पर सुकता न करना;

-बंदी-(स्त्री.) किस्त बाँधना; -ब-किस्त-(अव्य.) किस्त-किस्त करके, कई अंशों में; -वार-(अव्य.) किस्त-ब-किस्त।

किस्न-(अ. स्त्री.) प्रकार, भेद, तरह।

किस्पत-(अ. स्त्री.) भाग्य, तकदीर;

-आजमाई-(स्त्री.) भाग्य की परीक्षा; (मुहा.)- आजमाना-भाग्य के भरोसे नफलता प्राप्त करने की आशा से काम करना; -का घनी या दरिद्र-भाग्यवान या अभाग्य; -का फेर-

भाग्य का विपर्यय या उलट-फेर; -का लिखा, -में बदा-जो भाग्य में हो;

-चमकना या जागना-भाग्योदय होना;

- फलटना - स्थिति बदल जाना;

-फटना-दुर्भाग्य-ग्रस्त होना; -लड़ना

-तौभाग्य-पूर्ण स्थिति में होना, भाग्य का अनुकूल होना।

किस्ता-(अ. पुं.) कस्त, क्षत्रपान,

जहानी, दूनात; -कहानी-कथा-कहानी, मन्वन्त वाच; (मुहा.)

-रख,तमान या पाठ होना-सोई या का अर्थ होगा, सिटना, मरना।

की-(हि. प्रत्य.) 'ता' का स्त्रीलिखित रूप; (हि.सं.) 'तिया' का स्त्रीलिखित रूपकश्चित्तमान; (अव्य.) कथा लया।

कीर-(हि. स्त्री.) खीरान, खीर।

कीरट-(मं. पुं.) पौधा, मगध देश का प्राचीन नाम, एक प्रकार की पत्ती।

कीराना-(हि. हि.सं.) बंद करना, सिन्धियाना।

कीरत-(हि. पुं.) मगध का पर्व।

कीराना-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीराना-(हि. पुं.) मगध, कीरान।

कीरत-(हि. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीरत-(मं. पुं.) मगध का पर्व।

कीचड़-(हि. पुं.) पानी में रानी मिट्टी, कदम, पंक, लोस का मेल।

कीट-(सं. पुं.) कीड़ा-मकोड़ा, रेंगे या उड़नेवाला छोटा प्राणी, लोहे का मेल, विष्ठा; (वि.) निष्ठुर; (हि. पुं.) तेल, घी इत्यादि के नीचे बैठे हुई तलछट।

कीटजा-(सं. स्त्री.) लाक्षा, लाह, लाख।

कीटभृग-(सं. पुं.) एक न्याय विशेष जो उस समय कहलाता है जब अनेक वस्तुएं मिलकर एक रूप हो जाती हैं।

कीटमणि-(सं. पुं.) खद्योत, जुगनु, तितली।

कीटानु-(सं. पुं.) अति सूक्ष्म कीड़ा जो आंख से देख नहीं पड़ता।

कीड़ा-(हि. पुं.) उड़ने या रेंगे-वाला कीट, कृमि, मकोड़ा, सर्प, जूँ, खटमल, छोटा बच्चा; (मुहा.) कीड़े काटना-व्यग्र होना, धवड़ाना; कीड़े पड़ना-दीपयुक्त होना, सड़ना।

कीड़ी-(हि. स्त्री.) अति सूक्ष्म कीड़ा, छोटा कीड़ा, चींटी।

कीदृश-(सं. वि.) किस प्रकार का, कैसा।

कीनखाव-(हि. पुं.) रेशमी वस्त्र विशेष।

कीनना-(हि. क्रि. स.) मोल लेना, क्रय करना, खरीदना।

कीप-(हि. स्त्री.) छोटे मुंह के पात्र में तरल पदार्थ भरनेकी छुच्छी, चोंगी।

कीमत-(अ. स्त्री.) मूल्य, दाम, योग्यता, गुण।

कीमतो-(अ. वि.) मूल्यवान, दामी।

कीमा-(अ. पुं.) छोटे-छोटे महीन टुकड़ों में कटा मांस; (मुहा.)-करना-बहुत छोटे-छोटे टुकड़े करना।

कीमिया-(अ. स्त्री.) रसायन विद्या, सोना-चांदी बनाने की रहस्यमय-विद्या, अकालीन रसायन, कार्य सफल करने-वाली युक्ति; -गर-(पुं.) रसायन-विद्, लोहे-पत्थर आदि से सोना-चांदी बनाने के तरीकों का जानकार; -गरी-(स्त्री.) कीमियागर की विद्या; -साज-देखें 'कीमियागर'।

कीर-(नं. पुं.) मांस, दूध, तोता, मुवा, कज्जीर देग, इस देगका वासी।

कीरट-(सं. पुं.) बंग घातु, रांगा।

कीरति-(हि. स्त्री.) देखें 'कीर्ति'।

कीरी-(हि. स्त्री.) देखें 'कीड़ों'।

कीर्ये-(नं. वि.) टका हुआ, फंसा हुआ, धिसरा हुआ, भरा हुआ।

कीर्ये-(नं. वि.) कीर्तन करनेवाला।

कीर्तन-(सं. पुं) वर्णन, यश का प्रकाशन, गुण-कथन, कृष्णलोला-विषयक संगीत और भजन।

कीर्तनिया-(हि. पुं.) कृष्णलोला-विषयक संगीत करने और भजन गानेवाला, कीर्तन करनेवाला।

कीर्तनीय-(सं. वि.) कीर्तन करने योग्य।

कीर्ति-(सं. स्त्री.) पुण्य, ख्याति, यश, दीप्ति, चमक, शब्द, प्रसाद, विस्तार, फैलाव, सीता की एक सखी, राधा की माता, आर्या छन्द का एक भेद जिसमें १४ गुरु और १९ लघु वर्ण लगते हैं, एकादशाक्षरी वृत्त विशेष; -कर-(वि.) यशकारक; -धर-(वि.) कीर्तिमान्, प्रसिद्ध; -मान्, -शाली-(वि.) कीर्तियुक्त, विख्यात, प्रसिद्ध; -स्तम्भ-(पुं.) किसी की कीर्ति स्मरण कराने के लिये बनाया हुआ स्तम्भ, यश स्थापित करने का कार्य।

कीर्तित-(सं. वि.) कहा हुआ, प्रसिद्ध।

कील-(सं. स्त्री.) मेख, खूंटी, स्तम्भ, खंभा, लेश, बहुत छोटा टुकड़ा, केहुनी के नीचे का भाग, मूढ़-गर्भ जो. योनि में अटक जाता है; (हि. स्त्री.) कुम्हार के चाक की खूंटी, नाक में पहिनने का एक आभूषण, फोड़े आदि की कड़ी पीप, एक प्रकार की कपास, जाँते के बीच की खूंटी।

कीलक-(सं. पुं.) पशुओं को बांधने का खूंटा, परेग, तन्त्रोक्त देवता विशुप, दूसरे मन्त्र की शक्ति को नाश करनेवाला मंत्र।

कील-कांटा-(हि. पुं.) औजार, साज-सामान, हरवा-हथियार।

कीलन-(सं. पुं.) बन्धन, रोक, रूकावट, मन्त्र को कीलने का कार्य।

कीलना-(हि. क्रि. स.) कील लगाना, मेख ठोकना, कील देना, मंत्र के प्रभाव को दूर करना, मुंह बन्द करना, डट्टा लगाना, सर्प को बश में करना, वशीभूत करना, अधीन करना।

कीलशायी-(सं. पुं.) कुक्कुर, कुत्ता।

कीला-(हि. पुं.) कील, मेख, बड़ी कील।

कीलाक्षर-(सं. पुं.) एक प्रकार की प्राचीन फारसी लिपि जिसके अक्षर कील के समान होते थे।

कीलाल-(सं. पुं.) रक्त, अमृत, मधु, वाँगा जानेवाला पशु।

कीलित-(सं. वि.) मन्त्र से बँधा हुआ, कोला हुआ।

कीलिया-(हि. पुं.) पुरखट हाँकनेवाला।

कीली-(हि. स्त्री.) किसी चक्र के बीच

में लगी हुई खूंटी जिस पर चक्र घूमता है, कील, किल्ली।

कीश-(हि. पुं.) वानर, बन्दर, पक्षी, सूर्य; (वि.) तंगा; -फल-(पुं.) कल्लोल, अंकोल, शीतलघनीनी।

कीस-(हि. पुं.) गर्भ की थली, जेब, कीश, बन्दर।

कुँअर-(हि. पुं.) राजकुमार, राजपुत्र, बालक, लड़का, कुमार; -विलास-(पुं.) एक प्रकार का घान या चावल।

कुँअरि-(हि. स्त्री.) कुमारी, राजकुमारी।

कुँअरेटा-(हि. पुं.) छोटा कुँवर, कुमार।

कुँआरा-(हि. वि.) अविवाहित, जिसका विवाह न हुआ हो।

कुँआरी-(हि. स्त्री.) अविवाहिता कन्या, बिना व्याही हुई लड़की।

कुँइयां-(हि. स्त्री.) छोटा कुआँ।

कुँई-(हि. स्त्री.) कुमुदिनी, कोई, कुई।

कुँकुम(मा)-(हि. पुं.) लाख का बना हुआ पोला गोला जिसके भीतर गुलाल भरकर होली के दिन लोग एक दूसरे पर फेंकते हैं।

कुँचन-(पुं. सं.) सिकुड़ना, बाल का घुँघरूदार होना, टेढ़ा होना।

कुँचित-(सं. वि.) मुड़ा या सिकुड़ा हुआ।

कुँज-(हि. पुं.) पौधों या लताओं से ढँका हुआ स्थान, दुशाले के कोने का बेलवृत्त, कोनियाँ, छप्पर छाजने की एक लकड़ी।

कुँजगली-(हि. स्त्री.) पौधों या लताओं से ढँका हुआ मार्ग, पतली सँकरी गली।

कुँजड़-(हि. पुं.) पिस्ते का गोंद।

कुँजड़ा-(हि. पुं.) एक जाति जो फल और तरकारी बेचती है।

कुँजविहारी-(सं. पुं.) श्रीकृष्ण।

कुँजी-(हि. स्त्री.) ताली, अर्थ-बोधक-पुस्तक, व्याख्या की पुस्तक।

कुँठ-(सं. वि.) अकर्मण्य, मूर्ख, मुड़ा या सिकुड़ा हुआ, मोथरा।

कुँठता-(सं. स्त्री.) मूर्खता, मोथरापन।

कुँठित-(सं. वि.) लज्जित, मोथरा।

कुँड़-(हि. पुं.) कुँड़, हल चलाने से पड़ने-वाली जोत की गहरी लकीर; -पुजी-(हि. स्त्री.) कुँड़ का पूजन।

कुँड-(सं. पुं.) पानी रखने का कुँडा, जलपात्र, जलाशय, हाँड़ी, होम करने के लिए बना गड़ढा, जारज या दोगली संतान, एक प्रकार का सर्प, बटलोही।

कुँडकील-(सं. पुं.) पतिता ब्राह्मणी का पुत्र।

कुँडज-(सं. पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

कुँडल-(सं. पुं.) काग का एक अलंकार,

कान का बाला, बाली, बलय, पाश, गोल फंदा, मेखला, बदली में सूर्य या चाँद के चारों ओर मंडलाकार प्रकाश, घेरा, फेंटी, गेंडुरी, एक प्रकार का साँप।

कुंडलाकार—(सं.वि.) वृत्ताकार, मंडलाकार।

कुंडलिका—(सं. स्त्री.) छंद विशेष, कुंडलिया छंद, मंडलाकार प्रकाशवृत्त।

कुंडलिनी—(सं. स्त्री.) तंत्र तथा हठयोग के अनुसार हृदयगर्भ में स्थित सूक्ष्म और मूलाधार शक्ति।

कुंडली—(सं. पुं.) सर्प, वरुण, मोर, चित्र-मृग, विष्णु, अमलतास का वृक्ष; (स्त्री.) कुंडलिनी शक्ति, जन्मपत्रिका, सर्पिणी, गुरुच, कचनार, साँप का वृत्ताकार में सिमटना, गेंडुरी; -कृत—(वि.) कुंडल के आकार का, गेंडुरी बनाया हुआ।

कुंडलिया—(हिं. स्त्री.) एक छन्द विशेष जो दोहा और रोला छन्द के योग से बनता है।

कुंडा—(हिं. पुं.) चीड़े मुंह का जल इत्यादि रखने का मिट्टी का बड़ा तथा गहरा पात्र, द्वार में लगाने का कोड़ा, मल्लयुद्ध की एक युक्ति।

कुंडिका—(सं. स्त्री.) मिट्टी की कुंडी या पथरी।

कुंडिया—(हिं. स्त्री.) कठीती, कूड़ी।

कुंडी—(हिं. स्त्री.) परवर या लकड़ी का छोटा पात्र, किवाड़ की जंजीर या रस्सी की कड़ी, लंगर का बड़ा छल्ला; (मुहा.)—खटखटाना—दरवाजे की कुंडी की हिलाकर आवाज करना।

कुंडिया—(हिं. पुं.) मिट्टी का कसोरा या पुरवा।

कुंतल—(सं. पुं.) केश, बाल, पीने का पात्र, एक देश का नाम, हल; (अं. पुं.) १०० किलोग्राम की तोल।

कुंती—(सं. स्त्री.) यदुवंशीय धृतराज की कन्या और पांडुराज की पत्नी, वसुदेव की बहिन।

कुंतली—(हिं. स्त्री.) छोटी जाति की मधुमक्खनी।

कुंद—(सं. पुं.) विष्णु मकरंद पुष्प।

कुंद—(पा. वि.) मोचरा, मंद; -वृद्धि—(हिं. वि.)—जेनह—(वि.) मंद-वृद्धि; (मुहा.)—टुरी से हलाल करना—बहुत काट देना या मताना।

कुंदन—(हिं. पुं.) परिष्कृत किये हुए गोले का महान पत्र जो नगीना जड़ने के उपयोग में आता है, दूध सोना; -ताज—(पुं.) नगीना जड़नेवाला।

कुंदरा—(हिं. स्त्री.) खसतफला, एक प्रकार की गन्ना जिसमें परबल के समान फल लगते हैं।

कुंदलता—(सं. स्त्री.) एक छंद का नाम।

कुंदला—(हिं. पुं.) एक प्रकार का तंबू।

कुंदा—(हिं. पुं.) लकड़ी का मोटा टुकड़ा, बरतक का पिछला भाग, मूठ, लकड़ी की बड़ी मूंगरी जिससे कपड़े पर कुंदी की जाती है, डैना, रद्दा, घस्ता, मल्लयुद्ध की एक युक्ति।

कुंदिनी—(सं. स्त्री.) पद्मसमूह, पद्मिनी।

कुंदी—(हिं. स्त्री.) कपड़े को कुटाई जो इसकी सिकुड़न तथा रखाई दूर करने के लिये की जाती है; कड़ी मार; -गर—(पुं.) कपड़े पर कुंदी करनेवाला।

कुंदरना—(हिं. क्रि. स.) खुरचना, छीलना, खरादना।

कुंदेरा—(हिं. पुं.) खरादनेवाला।

कुंदी—(हिं. स्त्री.) जायफल, जलकुंजी।

कुंभ—(सं. पुं.) मिट्टी का घड़ा, कलस, ग्यारहवीं राशि, सोलह सेर की तोल, हाथी के मस्तक का मध्य भाग, योग की एक क्रिया, एक प्रकार की रागिणी, जायफल का वृक्ष, कुंभकर्ण के पुत्र का नाम; -क—(पुं.) प्राणायाम में नाक के छिद्र को दबाकर वायु-बंधन की क्रिया; -कर्ण—(पुं.) लंकाधिप रावण के मझले भाई का नाम; -कार—(पुं.) कोहार जो मिट्टी के बरतन बनाते और बेचते हैं; -जन्मा—(पुं.) अगत्य मुनि का एक नाम; -पर्णी—(स्त्री.) कोहड़े की लता; -पाद—(पुं.) मोटे पैर-वाला; -मेला—(हिं. पुं.) मकर राशि में बृहस्पति और सूर्य का योग होने पर प्रयाग, हरिद्वार और पुष्कर तीर्थों में लगनेवाला विशाल मेला; -रेता—(पुं.) अगत्य ऋषि, अग्नि; -संभव—(पुं.) अगत्य, वशिष्ठ, द्रोणाचार्य।

कुंभा—(सं. स्त्री.) बैस्या, रंडी, तुंबी, द्रोणपुष्पी।

कुंभिका—(सं. स्त्री.) श्वेतपर्णी, एक नेत्र-रोग, नुगूल।

कुंभिल—(सं. पुं.) अपूर्ण गर्भ की संतान।

कुंभिलाना—(हिं. क्रि. अ.) मज्जन होना, मूरसाना।

कुंभी—(सं. पुं.) हाथी, पशुपाल, एक प्रकार का विप्लवा कीड़ा।

कुंभीर—(सं. पुं.) घड़ियाल, नरक।

कुंभर—(हिं. पुं.) देवी 'कुमार'।

कुंभरि—(हिं. स्त्री.) राक्षसानी, गधा की पुत्री।

कुंभरा—(हिं. वि.) देवी 'कुंभरा'।

कुंभरुह—(हिं. पुं.) शुभुच, केशर।

कु—(सं. उप.) हीनता, नीचता, कुत्सित आदि अर्थों में प्रयुक्त होनेवाला उपसर्ग; जैसे—कुकर्म, कुफल, कुयोग आदि।

कुआं—(हिं. पुं.) कूप, इंदारा; (मुहा.)

-सोदना—जीविका के लिये उद्योग करना; (किसी के लिये)—सोदना—गिरनों को हानि पहुँचाने की चेष्टा करना;

-संकाना—परेशान या तंग करना;

-संक्राना—किसी वस्तु की खोज में बहुत हीरान होना; कुएं पर से प्यासे आना—सफलता पाते-पाते विफल हो जाना; कुएं में गिरना—जान-बूझकर विपत्ति में फँसना;

कुएं में गिराना, डालना या डकैलना—लड़की का विवाह गरीब घर में या कुपात्र से करना; उसकी जिदगी बरबाद करना।

कुएं में भांग पड़ना—सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना।

कुआड़ी—(हिं. स्त्री.) संगीत की एक लय।

कुआर—(हिं. पुं.) आश्विन मास।

कुइंदर—(हिं. पुं.) कुएं के बैठ जाने से बना हुआ गड्ढा।

कुइयां—(हिं. स्त्री.) छोटा कूप, कुआं।

कुकटौ—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की कपास जिसकी रूई कुछ लाली लिये हुए नफेद होती है।

कुकड़ना—(हिं. क्रि. अ.) संकुचित होना, सिकुड़ना।

कुकड़ बेल—(हिं. स्त्री.) बंटाल।

कुकड़ी—(हिं. स्त्री.) चर्तों में मानकर उतारा हुआ कच्चे मूत का लपेटा हुआ लच्छा, अंटी, मुट्ठा, गुग्गुली।

कुकरी—(हिं. स्त्री.) जंगली मुर्गी, बनमुर्गी।

कुकरौया—(हिं. पुं.) एक छोटा पोषा जिसके पत्ते बड़े होते हैं और उनमें में उम गन्ध निकलती है।

कुकर्म—(सं. पुं.) बुरा काम, शीत-निश्चित कर्म।

कुकर्मकारी—(सं. वि.) बुरा काम करनेवाला, कुकर्म।

कुकर्मो—(सं. वि.) कुत्सित काम करनेवाला।

कुकीति—(सं. स्त्री.) अरमान, निराशा।

कुकुर—(सं. पुं.) कुत्ता, मरुस्थलीय भयक राजा के पुत्र, एक जलजंतु, एक प्रकार का मत्स्य; -पानी, -शीशी—(सं. पुं.) एक प्रकार की सूर्य पराजयक मूली मत्स्य; -वंत—(पुं.) पादोदर की मापारण शक्ति से कुत्त मत्स्य पराजयक है; -वंता—(वि.) निरति कुत्त मत्स्य उपा है; -विरिस्ता—(सं. पुं.) मत्स्य-

निद्रा, कुत्ते के सदृश सतर्क और क्षणिक निद्रा; -माछी-(स्त्री.) कुत्ते को लगनेवाली एक बड़ी माछी; -मुत्ता-(पुं.) लकड़ियों पर बरसात में उगनेवाला छत्रक पौधा।

कुकुरौली-(हि. स्त्री.) कुकुरमाछी।

कुम्कुट-(सं. पुं.) मुर्गा, स्फुलिंग, चिनगारी; -नाड़ी-(स्त्री.) एक टेढ़ी नली जिसके द्वारा भरे हुए पात्र में से खाली पात्र में जल इत्यादि भरा जाता है; -व्रत-(पुं.) सन्तान की कामना से भाद्रपद मास की शुक्ल सप्तमी को स्त्री द्वारा किया जानेवाला व्रत।

कुम्कुटी-(सं. स्त्री.) छिपकली, मुर्गी।

कुम्कुभ-(सं. पुं.) जंगली मुर्गा, एक छन्द विरोध।

कुम्कुर-(सं.पुं.) कुत्ता, यदुवंशीय अंधक राज के पुत्र, एक प्रकार का सर्प, एक प्राचीन देश का नाम।

कुम्कुरी-(सं. स्त्री.) स्वामी, कुतिया।

कुक्रिय-(सं. वि.) कुकर्म करनेवाला।

कुक्रिया-(सं.स्त्री.) दुष्कार्य, बुरा काम।

कुक्ष-(सं. पुं.) जठर, पेट, कोख।

कुक्षि-(सं.स्त्री.) जठर,पेट,कोख, सन्तति, किसी पदार्थ का मध्य भाग, गुहा, खोह; (पुं.) एक प्राचीन देश का नाम, एक दानव, इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम।

कुखेत-(हि. पुं.) बुरी जगह, कुठाँव, कुत्सित स्थान।

कुख्यात-(सं. वि.) निन्दित, बदनाम।

कुख्याति-(सं. स्त्री.) निन्दा, अपमान, बदनामी।

कुगठन-(हि. स्त्री.) बुरी बनावट।

कुगति-(सं.स्त्री.) दुर्दशा, बुरी अवस्था।

कुगहनि-(हि. स्त्री.) अनुचित आग्रह, बुरी अड़ या हठ।

कुगुणी-(सं. वि.) कुत्सित लोगों में गिना जानेवाला।

कुग्रह-(सं.पुं.)अशुभ फल देनेवाला ग्रह।

कुघा-(हि. स्त्री.) दिया, ओर।

कुघात-(हि. पुं.) अशुभ अवसर, छल, कपट।

कुच-(सं. पुं.) स्तन, स्त्री की छाती; (वि.) निकुड़ा हुआ।

कुचकुभ-(सं.पुं.) कलम की भाँति जँचे स्तन।

कुचकुचवा-(हि. पुं.) कुन-कुच शब्द करनेवाली चिटिया, उल्लू।

कुचकुचाना-(हि. क्रि. स्त्री.) वारंवार कंचना या पैनी वस्तु बँसाना, थोड़ा-

सा कुचलना।

कुचक्र-(सं. पुं.) कुमन्त्रणा, दुरभिसंधि, पड़वन्त्र।

कुचक्री-(सं. वि.) दूसरों को बुरी सम्मति देनेवाला, कुचक्र करनेवाला।

कुचना-(हि.क्रि.अ.) सिकुड़ना, संकुचित होना, छिदना।

कुचर-(सं. वि.) नीच कर्म करनेवाला, दूसरे की निन्दा करनेवाला, बुरे स्थान में फिरनेवाला, आवारा।

कुचरा-(हि. पुं.) झाड़ू, बढ़नी।

कुचर्या-(सं. स्त्री.) निन्दनीय आचरण, बुरी चाल।

कुचलना-(हि. क्रि. स.) पैर से रौंदना, दवाना।

कुचला-(हि.पुं.) एक वृक्ष जिसके विपैले वीज औपधियों में प्रयुक्त होते हैं।

कुचली-(हि. स्त्री.) वे दाँत जो राज-दन्त और दाढ़ के बीच होते हैं, कुचलनेवाले दाँत, कीला।

कुचाग्र-(सं.पुं.)स्तन का अग्रभाग, चूचुक।

कुचाल-(हि. स्त्री.) बुरा अभ्यास, बुरी टेव, दुष्टता, कुत्सित आचरण।

कुचाली-(हि. वि.) बुरी चाल चलनेवाला, बदचलन, कुमार्गी, दुष्ट।

कुचाह-(हि.स्त्री.) अशुभ विषय, बुरी इच्छा।

कुचिन्ता-(सं. स्त्री.) बुरी चिन्ता।

कुचिकित्सक-(सं.पुं.) बुरा वैद्य।

कुचिया-(हि. स्त्री.) छोटी टिकिया।

कुचिलना-(हि.क्रि.स.) देखें 'कुचलना'।

कुचिला-(हि. पुं.) देखें 'कुचल'।

कुचौल-(हि.वि.) मैला वस्त्र पहिनेवाला।

कुचौला-(हि. वि.) देखें 'कुचल'।

कुचेल-(सं. वि.) मैला वस्त्र पहिने हुए; (पुं.) जीर्ण वस्त्र।

कुचेष्ट-(सं.वि.)निन्दित कार्य करनेवाला।

कुचेष्टा-(सं. स्त्री.) दुष्ट प्रयत्न, बुरी चाल, मुख का बुरा भाव।

कुचन-(हि. पुं.) कपट, व्याकुलता, दुःख।

कुचला-(हि. वि.) मलिन वस्त्रवाला, मलिन, गन्दा।

कुचची-(हि. स्त्री.) तेली की तेल नापने की कुप्पी।

कुच्छित्त-(हि. वि.) देखें 'कुत्सित'।

कुछ-(हि. वि.) किञ्चित्त, थोड़ा; (सर्व.) किञ्चित्त, कोई; (अव्य.) थोड़े परिमाण में, थोड़ा-सा; -एक-(वि.) थोड़ी संख्या में; -ऐसा-(वि.) विचित्र, विलक्षण; -कुछ-(अव्य.)

थोड़ा, किसी तरह; -न कुछ-(पुं. वि., अव्य.) थोड़ा-बहुत; -भी-सभी अवस्था में; -हो-चाहे जो हो; (मुहा.)-का कुछ-(पुं.) उलटा-पुलटा; -कहना-कठोर वचन का प्रयोग करना; -कर देना-जाड़ू-टोने का उपयोग करना; -खा लेना-विष खा लेना; -न चलना-वश न चलना; -न पूछिए-कहने की बात नहीं; -होना-भूत-प्रेत लगना; -समझना-श्रेष्ठ मानना; -हो-जाना-प्रतिष्ठित होना।

कुजंत्र-(हि. पुं.) बुरा यन्त्र, जाड़ू-टोना, टोटका।

कुज-(सं.पुं.)मंगल ग्रह,वृक्ष,पेड़, नरकासुर।

कुजन-(सं. पुं.) बुरा आदमी।

कुजप-(सं.वि.) उलटी माला फेरनेवाला।

कुजस-(हि. पुं.) कुल्याति।

कुजा-(सं. स्त्री.) सीता देवी, जानकी।

कुजाति-(सं. स्त्री.)नीच जाति; (वि.) नीच जाति का (पुरुष), अधम (आदमी)।

कुजिया-(हि.स्त्री.) छोटा पात्र, घरिया।

कुजन-(हि. स्त्री. वा पुं.) कुवेला, कुसमय।

कुज्जन-(सं. पुं.) एक प्रकार का नेत्र-रोग, सिकुड़न।

कुटंगक-(सं. पुं.) छानी, छप्पर।

कुट-(सं.पुं.)कलश, गगरा, कोट, पत्थर तोड़ने का घन, वृक्ष, पर्वत, पहाड़; (हि. स्त्री.) एक मोटी झाड़ी जिसकी गन्व सुन्दर होती है; (हि.पुं.)खण्ड, टुकड़ा।

कुटका-(हि. पुं.) छोटा टुकड़ा, कसीदे का तिकोना बूटा।

कुटकी-(हि. स्त्री.) एक पौधा जिसकी ग्रन्थिमय जड़ दवा में प्रयुक्त होती है, एक छोटा कीड़ा जो विल्ली, कुत्ते आदि के रोयें में घुसकर इनको काटता है।

कुटज-(सं. पुं.) कुरैया का पेड़, कमल, इन्द्रयव, द्रोणाचार्य का नाम; -गति-(स्त्री.) तेरह अक्षरों का एक छन्द।

कुटनई-(हि.स्त्री.)कुटनपन, नायक और नायिका के बीच सन्देश पहुचाने की क्रिया।

कुटनपन-(हि. पुं.) दूती-कर्म, पिशुनता, झगड़ा लगाने का काम।

कुटनपेशा-(हि. पुं.) कुटनपन द्वारा जीविका-निर्वाह।

कुटनहारी-(हि. स्त्री.) धान कूटनेवाली स्त्री।

कुटना-(हि. पुं.) स्त्री को परपुरुष से मिलानेवाला, स्त्रियों को बहकानेवाला, बंचक, कूटने-पीटने का

वन्त्र; (क्रि. अ.) कूटा जाना, मारा जाना, मार खाना।
 कुटनाना—(हि. क्रि. स.) व्यभिचारी बनाना, वहकाना, भड़काना।
 कुटनापन, कुटनापा—(हि. पूं.) देखें 'कुटनपन'।
 कुटनी—(हि. स्त्री.) स्त्रियों को वहकाकर परपुरुष से मिलानेवाली स्त्री, चुगली खानेवाली, झगड़ा लगानेवाली।
 कुटनीपन—(हि. पूं.) देखें 'कुटनपन'।
 कुटप—(सं. पूं.) घर के पास का बगीचा, पत्र, कमल।
 कुटुरकुटुर—(हि. पूं.) कोई कड़ी वस्तु को दाँतो से तोड़ने का शब्द।
 कुटल—(सं. पूं.) छाजन, छानी, छप्पर।
 कुटवाना—(हि. क्रि. स.) कूटने की क्रिया दूसरे से कराना।
 कुटाई—(हि. स्त्री.) कूटने का काम, कूटने का वेतन या मजदूरी।
 कुटास—(हि. स्त्री.) ताड़ना, मारपीट।
 कुटिचर—(सं. पूं.) घड़ियाल, सोंइस।
 कुटिया—(हि. स्त्री.) छोटा घर या झोपड़ी।
 कुटिल—(सं. वि.) वक्र, टेढ़ा, घूमा हुआ, घुंघराला, टुट्ट, पाजी, छली, कपटी; (पुं.) टुट्ट, शठ, शंख, घोंघा, चौबह अधरों का एक वर्णवृत्त; —कोट—(पुं.) सर्प, साँप, —गति—(पुं.) सर्प, साँप; —ता—(स्त्री.) तिरछापन, टेढ़ापन, छल; —पन—(हि. पूं.) कुटिलता।
 कुटिला—(सं. स्त्री.) सरस्वती नदी, राविका की ननद।
 कुटिलाई—(हि. स्त्री.) टेढ़ापन, छल, कपट।
 कुटिहा—(हि. वि.) कटूवित्त बोलनेवाला।
 कुटी—(हि. स्त्री.) धान-फूस की बनी हुई झोपड़ी, पर्णशाला, मुरा नामक मन्त्रद्रव्य, कुटनी।
 कुटीचन—(सं. पूं.) चार प्रकार के संन्यासियों में से एक जो संन्यास लेकर अपने भाई-भ्रतू के घर में रहते और भिक्षा माँगकर भोजन करते हैं।
 कुटीचर—(सं. पूं.) एक प्रकार का संन्यासी; (हि. वि.) छली, कपटी, कुट्ट।
 कुटीर—(सं. पूं.) कुटी।
 कुटुंब—(सं. पूं.) कुल, परिवार, भाई-भ्रतू।
 कुटुंबिक—(सं. वि.) परिवार संबंधित घर में रहनेवाला।
 कुटुंबिता—(सं. स्त्री.) पारिवारिक सम्बन्ध।
 कुटुंबिनी—(सं. स्त्री.) कुल-वन्धुवाली स्त्री।
 कुटुंबी—(सं. वि.) गृही, परिवारवाला; (पुं.) परिवार के लोग, सम्बन्धी, नाते-

दार, रूपक, किसान।
 कुटुन—(हि. पूं.) देखें 'कुटुंब'।
 कुटुवा—(हि. पूं.) कुटैया, कूटनेवाला।
 कुटेक—(हि. स्त्री.) बुरा हठ।
 कुटेव—(हि. स्त्री.) बुरी या कुत्सित आदत।
 कुटीनी—(हि. स्त्री.) कूटने का काम, कूटने का वेतन।
 कुटनी—(सं. स्त्री.) देखें 'कुटनी'।
 कुटमित—(सं. वि.) संयोग-काल में स्त्रियों का आनन्द लेते हुए भी कष्ट दिखलाना।
 कुट्टा—(हि. पूं.) परकटा कबूतर।
 कुट्टित—(सं. वि.) कटा हुआ, चूँण किया हुआ, टुकड़े किया हुआ।
 कुट्टिनी—(सं. स्त्री.) देखें 'कुटनी'।
 कुट्टी—(हि. स्त्री.) कटाई, गड़ासे से काटा हुआ चारा, कूटा और सड़ाया हुआ कागज जिसके अनेक पदार्थ बनते हैं, मैत्री-मंग (बालक इस अर्थ में प्रयोग करते हैं), परकटा कबूतर।
 कुठ—(सं. पूं.) चीते की झाड़ी या पौधा।
 कुठर—(सं. पूं.) मथानी का डंडा।
 कुठला—(हि. पूं.) अन्न रखने का मिट्टी का बड़ा पात्र।
 कुठाँऊ, कुठाँय—(हि. पूं.) देखें 'कुठाँव'।
 कुठाँव—(हि. पूं.) कुत्सित स्थान; (मुहा०) —मारना-भग्न-स्थान में चोट लगाना।
 कुठाट—(हि. पूं.) बुरा ठाट, बुरा सामान, बुरा प्रबंध, कुप्रबंध, काम नष्ट करने का उद्योग।
 कुठार—(सं. पूं.) कुल्हाड़ी, फरसा, नाग करनेवाली वस्तु।
 कुठारपाणि—(सं. पूं.) कुठार हाथ में लिये हुए परशुराम।
 कुठाराघात—(सं. पूं.) कुल्हाड़ी का आघात, गहरी चोट।
 कुठारी—(सं. स्त्री.) कुल्हाड़ी, टांगी; (वि.) नाग करनेवाली।
 कुठारु—(सं. पूं.) भस्मकार, नहन बनानेवाला।
 कुठाली—(हि. स्त्री.) सोनार की सोना-चाँदी गलाने की धरिया।
 कुठाहर—(हि. पूं.) कुत्सित स्थान, कुठोर, बुरा अवसर।
 कुठिला—(हि. पूं.) अन्न रखने का मिट्टी का पात्र, कुठला।
 कुठोर—(हि. पूं.) बुरा स्थान, अनुचित समय।
 कुड़—(हि. पूं.) कुट नाम की औषधि, अन्नराशि, सूत्र।
 कुड़कुड़—(हि. पूं.) अन्नराशि शब्द।
 कुड़कुड़ाना—(हि. वि. अ.) बुरा लगना, बुरना, कुड़कुड़ाना।

कुड़कुड़ी—(हि. स्त्री.) उदर में होनेवाला शब्द जो नून लगने पर या अजीर्ण के समय होता है कुड़गुड़ाहट।
 कुड़प—(सं. पूं.) वत्सल सोले का एक परिमाण।
 कुड़बुड़ाना—(हि. क्रि. अ.) झुंझलाना, मन ही मन कुड़ना, कुड़बुड़ाना।
 कुड़री—(हि. स्त्री.) गंडुरी, नदी के घुनाघ से तीन ओर पानी में धिरी हुई भूमि।
 कुड़ल—(हि. पूं.) खत कम होने या ठंटा पड़ने से उत्पन्न हुई शरीर की ऐंठन।
 कुड़ब—(सं. पूं.) एक पुरानी तौल जो प्रत्येक चतुर्थांश होता थी, वत्तीन या सोलह तौल का बटारा।
 कुड़ा—(हि. पूं.) कुट्टक पत्र, कुरंगा।
 कुड़ाली—(हि. स्त्री.) कुठार, कुल्हाड़ी।
 कुड़क—(हि. पूं.) एक प्रकार का बाजा; (स्त्री.) अण्डा न देनेवाली मुरगी; (वि.) निरर्थक, व्यर्थ।
 कुड़ेर—(हि. स्त्री.) राव में से जूनी निकालने की विधि।
 कुड़ेरना—(हि. वि. स.) राव में से जूनी वहाना; (वि.) कुड़गा, बेटीग, नहा।
 कुड़मल—(सं. पूं.) मुकुल, खिलती हुई कली।
 कुड़ंग—(हि. पूं.) बुरा आचरण, कुचाल; (वि.) वेलांग, नहा, अनिन्द, असन्ध।
 कुड़ंगा, कुड़ंगो—(हि. वि.) दुरे आचरण का, कुमार्गी।
 कुड़न—(हि. स्त्री.) मन-ही-मन रखेवाला शोक या दुःख, चिद।
 कुड़ना—(हि. वि. अ.) मन-ही-मन शोक करना, चिन्ता, दुःखी होना, मन-ही-मन मनोमना, जलना।
 कुड़ब—(हि. वि.) वेदक, कठिन।
 कुड़ाना—(हि. वि. स.) शोक दिखलाना, चिन्ता, दुःखी करना, चिन्ताना।
 कुपक—(सं. पूं.) गुण का उल्लास करना।
 कुपप—(सं. पूं.) शर, मजदूर, मारुत, बरती, नौका, शिकाराणा शब्द।
 कुपपानी—(सं. वि.) शर-मजदूर, शर मानेवाला।
 कुपनी—(सं. स्त्री.) कुत्सित स्थान, कुपी दीन।
 कुप—(सं. पूं.) शर-मजदूर, शर-मजदूर।
 कुपक—(सं. पूं.) मजदूर।
 कुपरा—(हि. पूं.) शोक, शोक, शोक, शोक, शोक शिकारे का शब्द।
 कुपरा—(हि. वि. अ.) शर-मजदूर, शर-मजदूर।
 कुपरा—(सं. वि.) शर-मजदूर, शर-मजदूर।
 कुपरा—(सं. वि.) शर-मजदूर, शर-मजदूर।

गुप्त, दिनमान का वाठवाँ मुहूर्त, मध्याह्न, एक प्रकार का वाजा, लड़की का बेटा, नाती, छोटा घड़ा; (वि.) थोड़ा गरम, गुनगुना।

कृतपरस्वी-(सं. पुं.) निन्दित तपस्वी, अच्छी तपस्या न करनेवाला।

कृतरन-(हिं. स्त्री.) देखें 'कृतरन'।

कृतरना-(हिं. क्रि.स.) दाँत से छोटे टुकड़े काटना, कोई भाग बीच में से काट कर निकाल लेना।

कृतरक-(सं. पुं.) निन्दनीय तर्क।

कृतरकौ-(सं. वि.) कृतरक करनेवाला, बकबादी।

कृतला-(हिं. पुं.) हँसिया, चारा काटने का एक हथियार।

कृतवार(ल)-(हिं. पुं.) क्षेत्र की उपज का कृत करनेवाला, कोतवाल।

कृतवारी(ली)-(हिं.स्त्री.) देखें 'कोतवाली'।

कृतार-(हिं. पुं.) असुविधा, अड़चन, कुप्रबंध।

कृतिया-(हिं. स्त्री.) कुक्कुरी, कुत्ते की मादा, कुत्सित स्त्री, बुरी स्त्री।

कृतुक-(सं. पुं.) कौतुक, कौतूहल।

कृतूहल-(सं. पुं.) किसी वस्तु को देखने या सुनने की बड़ी लालसा, कौतुक, श्रीड़ा, खेल, आश्चर्य, अचंभा, खेलवाड़, नायिका का अलंकार विशेष जिसमें वह मनोहर पदार्थ को देखने की अधिक आकांक्षा करती है।

कृतूहलित-(सं. वि.) आश्चर्यमें पड़ा हुआ।

कृतूहली-(सं. वि.) कौतुकी, किसी वस्तु को देखने की बड़ी लालसा करनेवाला।

कृत्ता-(हिं. पुं.) कुक्कुर, श्वान, यंत्र में किसी घूमनेवाले भाग को रोकने का साधन, कपाट को न खुलने के लिये लगाया हुआ अवरोध, बंदूक का घोड़ा, तुच्छ या नीच मनुष्य; (मुहा.)

-काटना-सनक जाना; कृत्ते की तरह या कृत्ते की मौत मरना-बुरी तरह से मृत्यु होना; कृत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती-दृष्ट प्रकृतिवाला मनुष्य कभी ठीक आचरण नहीं करता; कृत्ते की नौद-सतक और क्षणिक नौद; कृत्ते के भूंकने से हाथी नहीं डरता-मुत्पाथी व्यक्तित्व तुच्छ व्यक्तियों के उपहास, बातों आदि पर ध्यान नहीं देता।

कृत्तो-(हिं. स्त्री.) कुक्कुरी, कृतिया।

कृत्त-(सं. अन्व.) कहीं, किस अवस्था में।

कृत्तित्-(सं. अन्व.) किसी स्थान में।

कृत्तित्त-(सं. पुं.) निन्दा, दुर्नाम।

कृत्सा-(सं. स्त्री.) निन्दा, जुगुप्सा, अपवाद।

कृत्सित-(सं. वि.) निन्दित, गहित, अधम, नीच।

कृत्थ-(सं. पुं.) कन्या, कथरी, हाथी की झूल।

कृत्थित-(सं. वि.) सड़ा-गला।

कृत्तंग-(सं. पुं.) मचान के ऊपरकी मड़ी।

कृत्तंड-(सं. पुं.) अनुचित दण्ड।

कृत्तई-(हिं. पुं.) धान्य विशेष, कोदो।

कृत्तकना-(हिं. क्रि. अ.) आनन्द में उछलना, कूदना।

कृत्तका-(हिं. पुं.) उछल-कूद, कूद-फाँद।

कृत्तरत-(अ. स्त्री.) ईश्वरीय शक्ति, प्रकृति; -का खेल (पुं.) ईश्वरी लीला।

कृत्तरती-(अ. वि.) ईश्वरीय, प्राकृतिक।

कृत्तरा-(हिं. पुं.) कुदाल, फावड़ा।

कृत्तरान-(सं. वि.) कुरूप, मदा।

कृत्तलाना-(हिं. क्रि. अ.) उछलना, कूदना, कूदते चलना।

कृत्ताव-(हिं. पुं.) घोखा, विश्वासघात, संकट की अवस्था, बुरी अवस्था, भयंकर स्थान, मर्म-स्थान।

कृत्ताई-(हिं. वि.) विश्वासघाती, छली, कपटी, बुरा दाँव लगानेवाला; (स्त्री.)

कृत्तान या छलांग।

कृत्तान-(सं. पुं.) अयोग्य पुरुष को दिया जानेवाला दान, कुत्सित दान लेना, यथा-शय्यादान, गजदान, इ०; (हिं. स्त्री.) उछल-कूद, कृत्ताई, छलांग, कूदने का स्थान, कूदने की दूरी।

कृत्ताना-(हिं. क्रि. स.) कूदने में लगाना, दीड़ाना।

कृत्ताम-(हिं. पुं.) छोटा पैसा या रुपया।

कृत्ताय-(हिं. पुं.) देखें 'कृत्ताव'।

कृत्तार-(सं. स्त्री.) भूमि खोदने का एक साधन, कुदाली।

कृत्तारी-(हिं. स्त्री.) देखें 'कुदाली'।

कृत्ताल-(सं. स्त्री.) भूमि खोदने का अस्त्र, कुदाली।

कृत्ताली-(हिं. स्त्री.) देखें 'कुदार'।

कृत्ताव-(हिं. पुं.) कृत्ताई, कृत्तान।

कृत्तास-(हिं. पुं.) नाव की पतवार का डण्डा।

कृत्तित्त-(सं. पुं.) साधन का दिन, बुरा दिन, आपत्ति का समय, ऋतु-विरुद्ध कष्टकारक दिन, पानी बरसने या दिन भर बादल छाये रहने का दिन।

कृत्तित्त-(हिं. स्त्री.) कृत्तित्त, बुरी दृष्टि, पापदृष्टि।

कृत्तित्त-(सं. वि.) देखने के अयोग्य।

कृत्तित्त-(सं. स्त्री.) मन्द या बुरी दृष्टि, नजर।

कृत्तित्त-(सं. पुं.) मूदेव, ब्राह्मण, दैत्य, दानव।

कृत्तेश-(सं. पुं.) कुत्सित देश, बुरा देश।

कृत्तेश-(सं. पुं.) कुत्सित देह, बुरा शरीर।

कृत्तार, कृत्ताल-(सं. पुं.) कुदार, कुदाली।

कृत्तल-(सं. पुं.) फूल की कली।

कृत्तव-(सं. पुं.) कोदव अन्न, कोदो।

कृत्तवतु-(सं. स्त्री.) कुत्सित धातु, लोहा।

कृत्तान्य-(सं. पुं.) क्षुद्र धान्य, घास इ०

में का धान्य, पापाजित धान्य।

कृत्तयो-(सं. वि.) निर्वाध, निर्लज्ज।

कृत्तकुना-(हिं. वि.) मन्दोष्ण, थोड़ा गरम, गुनगुना।

कृत्तख-(सं. पुं.) नख गिरने का एक रोग।

कृत्तखी-(सं. वि.) नख गिरने के रोगवाला।

कृत्तट-(सं. पुं.) बुरा खेलाड़ी, सनई का पीवा।

कृत्तप-(हिं. पुं.) देखें 'कृत्तपण'।

कृत्तवा-(हिं. पुं.) कुटुम्ब, घराना।

कृत्तवी-(हिं. पुं.) खेती करनेवाली एक हिन्दू जाति, कुरमी, कुर्मी।

कृत्तवा-(हिं. पुं.) धातु के पात्र खरादनेवाला, खरादिया।

कृत्तह-(सं. वि.) बुरा फन्दा डालनेवाला; (हिं. पुं.) द्वेष, मनमोटाव, पुरानी शत्रुता।

कृत्तही-(हिं. वि.) द्वेष करनेवाला, कुढ़नेवाला।

कृत्ताई-(हिं. स्त्री.) बुरादा, बकनी, खुरचने या खरादने से निकला हुआ चूर्ण, खरादने का काम या वेतन।

कृत्ताथ-(सं. पुं.) बुरा स्वामी या पति।

कृत्ताम-(सं. पुं.) अपना नाम, दुर्नाम।

कृत्तायक-(सं. पुं.) देखें 'कृत्ताथ'।

कृत्तास-(सं. पुं.) उच्छ्र, ऊँट।

कृत्तित्त-(हिं. वि.) देखें 'क्वणित'।

कृत्तिया-(हिं. पुं.) खरादनेवाला, अनुमान से कृत करनेवाला।

कृत्तय-(हिं. पुं.) कृत्तय।

कृत्तयो-(हिं. वि.) कृत्तयगामी।

कृत्तट-(सं. पुं.) फटा-पुराना वस्त्र।

कृत्तट-(हिं. वि.) अशिक्षित, अनपढ़।

कृत्तथी-(हिं. वि.) कृत्तथ करनेवाला।

कृत्तथ-(सं. पुं.) बुरा मार्ग, बुरी चाल, बुरा आचरण; (हिं. पुं.) कृत्तथ, स्वास्थ्य के लिये हानिकार कार्य या भोजन;

-गामी-(वि.) बुरा आचरण करनेवाला कृत्तथ-(सं. पुं.) स्वास्थ्य दिगाड़नेवाला।

आहार-विहार।

कृत्तना-(हिं. क्रि. अ.) श्राव करना।

कृत्तरीक्षक-(सं. पुं.) परीक्षा के समय भले-बुरे का विचार न करनेवाला।

कृत्ताट-(सं. पुं.) बुरी मंत्रणा या राय।

कृत्ताठी-(सं. वि.) अशुद्ध रूप से पाठ करनेवाला, कुर्मत्री।

कुपाणि—(सं. वि.) वक्रहस्त, टेढ़े-मेढ़े हाथवाला।
 कुपात्र—(सं. वि., पुं.) अयोग्य या अनधिकारी (व्यक्ति), दान देने के लिये शास्त्र द्वारा निषिद्ध (व्यक्ति)।
 कुपार—(हि. पुं.) समुद्र।
 कुपित—(सं. वि.) क्रुद्ध, अप्रसन्न।
 कुपिनी—(सं. स्त्री.) मछली रखने का पात्र।
 कुपुत्र—(सं. पुं.) माता-पिता की आज्ञा न माननेवाला बेटा, कुपयगामी या नालायक पुत्र।
 कुपुरुष—(सं. पुं.) वह मनुष्य जो संसार में कोई भला काम न करे।
 कुप्पा—(हि. पुं.) चमड़े का घी, तेल इत्यादि रखने का बड़ा पात्र; (मुहा.)—सा मुंह करना या फुलाना—मुंह फुलाना;—होना—फूल जाना, मोटा होना, कुड़ना, ठठना;—साज—(पुं.) कुप्पा बनानेवाला चमार।
 कुप्पी—(हि. स्त्री.) तेल-फुलेल रखने का चमड़े का पात्र, छोटा कुप्पा।
 कुप्य—(सं. पुं.) जस्ता, सीसा और रांगा मिलाकर बनी हुई धातु विशेष, सोना-चांदी से भिन्न धन।
 कुप्रिय—(सं. वि.) अप्रिय।
 कुफुर—(हि. पुं.) अवमं।
 कुफंड—(हि. पुं.) कोदण्ड, कमान; (वि.) विकृतांग, खोंड़ा।
 कुवजा—(हि. वि.) देखें 'कुब्जा'।
 कुवड़ा—(हि. पुं.) कुब्ज, वह मनुष्य जिसकी पीठ टेढ़ी हो गई हो; (वि.) टेढ़ा, मुड़ी हुई पीठवाला।
 कुवड़ी—(हि. वि.) कुब्जा, टेढ़ी पीठवाली (स्त्री); (स्त्री.) झुकी हुई मूठ की छड़ी, टेढ़िया।
 कुवत—(हि. स्त्री.) कुवालय, बुरी बात, कुञ्जाल, शक्ति।
 कुवरी—(हि. स्त्री.) कुब्जा, कंस की एक दामी, झुकी मूठ की छड़ी।
 कुवाक—(हि. पुं.) देखें 'कुवाक्य'।
 कुवानि—(हि. स्त्री.) बुरा अम्यास, दुष्ट भाव, बुरी लग्न।
 कुवानी—(हि. स्त्री.) बुरा व्यवहार।
 कुवाहल—(सं. पुं.) ऊट्ट, ऊँट।
 कुवृत्ति—(सं. वि.) मन्दवृत्ति, मूर्ख।
 कुवेला—(हि. स्त्री.) बुरा अवसर, बुरा समय, अवसर।
 कुधोल—(हि. पुं.) गदु या अप्रिय वचन।
 कुधोन्नो—(हि. वि. स्त्री.) बुरी बात रहनेवाली।

कुब्ज—(सं. वि.) टेढ़ी पीठवाला, कुवड़ा; (पुं.) एक वायुरोग जिसमें पीठ बीच में से उभड़ जाती है।
 कुब्जत्व—(सं. पुं.) कुवड़ापन।
 कुब्जा—(सं. स्त्री.) कंकरी की कुवड़ी दासी जिसका नाम मन्वरा था, कंस की एक कुवड़ी दासी जिसका नाम त्रिवन्ना था, कुवड़ी स्त्री।
 कुब्जित—(सं. वि.) वक्र, टेढ़ा किया हुआ।
 कुब्बा—(हि. पुं.) कुब्ज, कुवड़ा, डिल्ला।
 कुभा—(सं. स्त्री.) काबुल नदी का प्राचीन नाम, पृथ्वी की छाया; (वि.) न चमकनेवाला।
 कुभार्या—(सं. स्त्री.) निन्द्य स्त्री।
 कुभाव—(सं. पुं.) बुरा भाव, द्वेष।
 कुभुक्त—(सं. पुं.) कुखाद्य, बुरा भोजन।
 कुभूत्—(सं. पुं.) पवत, पहाड़।
 कुभृत्य—(सं. पुं.) बुरा भृत्य या नाँकर।
 कुमठी—(हि. स्त्री.) पतली लचकनेवाली टहनी।
 कुमंत्र—(सं. पुं.) कुमंत्रणा, बुरी सम्मति।
 कुमंत्रणा—(सं. स्त्री.) देखें 'कुमंत्र'।
 कुमंत्री—(सं. पुं.) निन्द्य मन्त्री, बुरा मंत्री।
 कुमकी—(हि. वि.) सहायता संबंधी; (स्त्री.) हाथियों के पकड़ने में सहायता देनेवाली सिखलाई हुई हथिनी।
 कुमकुन—(हि. पुं.) देखें 'कुकुम'।
 कुमकुमा—(सं. पुं.) लाह का पोला गोला जिसमें गुलाल भरकर होली के त्यौहार पर लोग एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, काँच का बना हुआ पोला गोला, सोनार की दाना बँटाने की टाँकी, लोटा।
 कुमकुमी—(हि. स्त्री.) छोटे मुँह का लोटा।
 कुमति—(सं. स्त्री.) दुर्वृत्ति।
 कुमाच—(हि. पुं.) एक प्रकार का रेशमी वस्त्र, गंजीफ का एक रंग, फेंवान।
 कुमार—(सं. पुं.) निर्मल सुवर्ण, सारा सोना, पाँच वर्ष का बालक, पुत्र, सुवराज, कार्तिकेय, मोक्ष, निम्बुद; तनक, मनन्दन, नगानन और ननकुमार-ये ऋषि कुमार कहलाते हैं; मंगल मह, पुण्य की कुवाकसा का काल जो १३ वर्ष में ३० वर्ष पर्यन्त रहता है, एक का विभिन्न विधात प्रभाव वाला हो परती होता है। शक्ति।
 कुमाटक—(सं. पुं.) राजकुमार, राजा, राजा, राजा का पैसा या पूजारी।
 कुमारन—(हि. पुं.) देखें 'कुमारी'।
 कुमारवन्द—(सं. पुं.) बाराही की विष्णु का शक्ति।

कुमारराज—(हि. पुं.) जुआ नैकनेवाला, जुवारी।
 कुमारभृत्या—(सं. स्त्री.) प्रसन्न करानेवाली तथा गभिणी की परिचर्या करनेवाली स्त्री, बच्चों को पालनेवाली घाय।
 कुमारलतिका—(सं. स्त्री.) सात मात्राओं का एक छन्द।
 कुमारसंभव—(सं. पुं.) महाकवि कात्रिदास-द्वारा एक काव्य का नाम।
 कुमारिका—(सं. स्त्री.) अविवाहिता कन्या, कुमारी लड़की, धोकुआर।
 कुमारिया—(हि. पुं.) एक प्रकार बड़ा हाथी।
 कुमारिल भट्ट—(सं. वि.) एक प्रतिष्ठित मीमांसक जिन्होंने 'मीमांसा-वातिक' लिखा है।
 कुमारी—(सं. स्त्री.) चारह वर्ष की कन्या, धोकुआर, बड़ी रक्षावती, अविवाहिता कन्या, सीता, दुर्गा, पार्वती, नवमल्लिका, चमेली, पद्मी, भारत के दक्षिण-स्थित कुमारिका अन्तरीप, सोलह अक्षरों का एक छन्द;—पूजन (पुं.),—पूजा (स्त्री.) तत्र मत्त के अनुसार अविवाहिता कन्या का पूजन।
 कुमार्ग—(सं. पुं.) नीतिविग्रह कार्य, कुपय, अधर्म, बुरी चाल।
 कुमार्गामी, कुमार्गी—(सं. वि.) कुपय पर जानेवाला, अधर्मी, धर्मनाशक।
 कुमित्र—(सं. पुं.) अपकारी बन्तु।
 कुमुत्—(सं. पुं.) मुबर, रावण का एक चाँदा; (वि.) बुरे मुग्ताला।
 कुमुद—(सं. पुं.) पद्म, कमल, सरोवर कुई, चाँदी, कपूर, विष्णु, एक प्रकार का चन्दर, एक प्रकार का सुगन्ध, एक केतु विशेष जिसके ऊपर होने में अशुभा होता है, कुण के छोटे भाई मय के पुत्र का नाम;—नाथ,—प्रिय,—संपु—(पुं.) चन्द्रमा।
 कुमुदिनी—(सं. स्त्री.) कुई का पुत्र, चाँदनी;—नाथ—(पुं.) चन्द्रमा।
 कुमुप—(सं. वि.) सुनिहित, सुख।
 कुमुद—(सं. पुं.) अथाकार के शक्ति शक्ति का रस, चाँदी धूल।
 कुमुद—(हि. पुं.) देखें 'कुमुद'।
 कुमुद, कुमुद—(हि. पुं.) एक प्रकार के विशेष गुण के कारण जो एक विशेष गुण के कारण से उत्पन्न हो, कुमुद की दक्षिणा—(स्त्री.) दक्षिणा मन्त्र।

कुम्हड़ीरो—(हि. स्त्री.) वरी जिसमें कोंहड़े के महीन टुकड़े मिला दिये जाते हैं।
 कुम्हलाना—(हि. क्रि. अ.) मुरझाना, पीला पड़ना, सूखना, तेजहीन होना, वनस्पति का सूखने लगना।
 कुम्हार—(हि. पुं.) कुम्भकार, मिट्टी के पात्र बनानेवाला।
 कुम्ही—(हि. स्त्री.) जलकुम्भी, पानी पर फलननाला एक पौधा।
 कुयाजो—(सं. वि.) निन्द्य यज्ञ कराने या करनेवाला।
 कुयोग—(सं. पुं.) ग्रह-नक्षत्र आदि का अनिष्टकारक संयोग, कुलग्न।
 कुरंग—(सं. पुं.) हिरन, एक छंद; (हि. पुं.) बुरा लक्षण या हाल; -नयना, -नयनी—(वि.) मृगनयना।
 कुरंट—(सं. पुं.) कटसरैया, मकोय।
 कुरंट—(हि. पुं.) एक प्रकार का कड़ा पत्थर, मानिकरेत।
 कुरंड—(सं. पुं.) अखरोट का वृक्ष, मुष्क-वृद्धि रोग, अण्डकोप बढ़ने का रोग।
 कुरकी—(हि. स्त्री.) जायदाद का जव्त किया जाना।
 कुरकुट—(हि. पुं.) छोटा टुकड़ा।
 कुरकुटा—(हि. पुं.) कटा हुआ रवा, रोटी का टुकड़ा।
 कुरकुर—(हि. पुं.) किसी खरी वस्तु के दबकर टूटने से उत्पन्न शब्द।
 कुरकुरा—(हि. वि.) कुरकुर शब्द करनेवाला, खरा और करारा।
 कुरकुराहट—(हि. स्त्री.) कुरकुर करने का शब्द, कुरकुर होने की स्थिति।
 कुरकुरी—(हि. स्त्री.) कोमल पतली हड्डी, घाड़ की एक बीमारी।
 कुरगरा—(हि. पुं.) कारनिस इत्यादि महीन काम बनाने की छोटी थापी।
 कुरट—(सं. पुं.) चर्मकार, चमार।
 कुरटा—(हि. पुं.) एक जाति का अरबी घोड़ा।
 कुरता—(हि. पुं.) कमीज की तरह का मरदाना पहनावा।
 कुरती—(हि. स्त्री.) छोटा कुरता, स्त्रियों के पहिने का एक वस्त्र।
 कुरवी—(हि. स्त्री.) कुलत्थ, कुलथी।
 कुरन—(हि. पुं.) देखें 'कुरंट'।
 कुरना—(हि. क्रि. अ., स.) झकट्टा होना, ढेर लगाना, मीठी बोली बोलना।
 कुरवनही—(हि. स्त्री.) बड़ई का कौर या गंगा नुबारने का एक अस्त्र।
 कुरवान—(सं. पुं.) बलि, बलिदान, निष्ठा-पद; (मुहा.)—होना—बलिदान करना।

कुरबानी—(अ. स्त्री.) मुसलमानों का बकरीद के दिन पशु-बलि करना।
 कुरमा—(हि. पुं.) कुनवा, कुटुम्ब, घराना।
 कुरमी—(हि. पुं.) देखें 'कुनवी'।
 कुरर—(सं. पुं.) कौंचपक्षी, मिद्ध जाति की एक चिड़िया, एक जलचर पक्षी।
 कुररा—(हि. पुं.) देखें 'कुरर', टिटिहरी।
 कुररी—(सं. स्त्री.) मादा टिटिहरी, आर्या छन्द का एक भेद जिसमें ४ गुरु और ९ लघु वर्ण होते हैं।
 कुरल—(सं. पुं.) कुन्तल, काकुल।
 कुरलना—(हि. क्रि. अ.) मधुर स्वर में बोलना, चहकना।
 कुरला—(हि. पुं.) कुल्ला, कुन्तल, काकुल।
 कुरव—(सं. पुं.) कटसरैये का शाक, बुरी बोली; (वि.) कर्कश या बुरी बोली बोलनेवाला।
 कुरवना—(हि. क्रि. अ.) राशि लगाना।
 कुरवारना—(हि. क्रि. स.) काटना, खरोचना।
 कुरस—(सं. पुं.) बुरा रस, आसव, मदिरा।
 कुरसा—(हि. पुं.) एक वृक्ष जिसका काठ कड़ा तथा लाल रंग का होता है।
 कुरसी—(हि. स्त्री.) चार पायेवाला एक प्रकार का ऊँचा आसन जो एक आदमी के बैठने के लिए होता है, मकान की सतह ऊँची करने के लिए बनाया गया चबूतरा, पीढ़ी, पुस्त; -नामा—(पुं.) वंशावली, पुस्तनामा; (मुहा.)—देना—आदर करना।
 कुरा—(हि. पुं.) पुराने घाव में पड़ी हुई गाँठ।
 कुराई—(हि. पुं.) पैर में डालने का काठ, काठ की वेड़ी।
 कुराज्य—(सं. पुं.) निन्द्य राज्य।
 कुराच—(अ. पुं.) मुसलमानों का धर्म-ग्रन्थ जिसमें हजरत मुहम्मद के उपदेश लिपिवद्ध हैं; -मजीद, शरीफ—(पुं.) कुरान का आदरसूचक नाम; (मुहा.)—उठाना,—पर हाथ रखना—कुरान की कसम खाना।
 कुरानी—(अ. वि.) कुरान से संबद्ध।
 कुरान—(सं. स्त्री.) पानी से भूमि पोली पड़ जाने से बना हुआ गड्ढा, कुराह।
 कुराह—(हि. स्त्री.) कुमार्ग, बुरा मार्ग, बुरा आचरण।
 कुराहर—(हि. पुं.) देखें 'कोलाहल'।
 कुराही—(हि. वि.) कुमार्गी, बुरे मार्ग पर चलनेवाला, बदचलन; (स्त्री.) बुराचार।
 कुरिया—(हि. स्त्री.) मड़ई, झोंपड़ी, छोटा गाँव, ढेर, दोरों में भरकर राव की जूसी निकालने का काम।

कुरियाल—(हि. स्त्री.) पक्षियों का आनन्द से बैठकर पर खुजलाना; (मुहा.)—में आना—आनंद में मस्त होना।
 कुरी—(हि. स्त्री.) वंश, घराना, ढेर।
 कुरीति—(सं. स्त्री.) कुप्रथा, कुचाल।
 कुरु—(सं. पुं.) अग्नीध्र राजा के पुत्र का नाम, घृतराष्ट्र और पाण्डवों के पूर्व पुरुष का नाम, एक प्राचीन जनपद का नाम, भात, पुरोहित, कुरु-जनपद-निवासी।
 कुरई—(हि. स्त्री.) वाँस या मूँज की बनी हुई छोटी डलिया, मोनी।
 कुरुक्षेत्र—(सं. पुं.) एक अति प्राचीन पुण्यस्थान। (यह अंवाला और दिल्ली के बीच में है। महाभारत का युद्ध इसी स्थान पर हुआ था।)
 कुरुख—(हि. वि.) क्रुद्ध, कुपित, मुंह बनाये हुए।
 कुरुखेत—(हि. पुं.) देखें 'कुरुक्षेत्र'।
 कुरुजांगल—(सं. पुं.) पाञ्चाल देश के पश्चिम का एक देश।
 कुरुम—(हि. पुं.) देखें 'कूर्म'।
 कुरुवंद—(सं. पुं.) कुलथी, नागरमोथा, उड़द, मानिक, काला नमक, दर्पण।
 कुरुप—(सं. वि.) निन्द्यरूप, मद्दा; -ता—(स्त्री.) वेदंगापन।
 कुरेदना—(हि. क्रि. स.) खुरचना, खोदना, किसी वस्तु के ढेर को इधर से उधर हटाना, खुलेडना।
 कुरेदनी—(सं. स्त्री.) भट्ठी की आग हटाने का सीकचा।
 कुरेभा—(हि. पुं.) वर्ष में दो बार ब्याने-वाली गाय।
 कुरेर—(हि. स्त्री.) हँसी, खेल-कूद।
 कुरेलना—(हि. क्रि. स.) कुरेदना, खोदना।
 कुरैत—(हि. पुं.) साड़ी, हिस्सेदार।
 कुरैना—(हि. पुं.) राशि, ढेर।
 कुरैया—(हि. स्त्री.) एक जंगली वृक्ष जिसका फल इन्द्रजव कहलाता है, कुटज।
 कुरौना—(हि. क्रि. स.) राशि या ढेर करना।
 कुरी—(हि. पुं.) देखें 'कुरता'।
 कुरपर—(सं. पुं.) केहूनी, घटना।
 कुरमी—(हि. पुं.) देखें 'कुनवी'।
 कुरी—(हि. स्त्री.) हेंगी, सोहागा, कुरकुरी, कोमल हड्डी, गोल टिकिया।
 कुरस—(हि. पुं.) एक घास जिसकी जड़ से रस्ती, चटाई इत्यादि बनती है।
 कुल—(हि. वि.) सम्पूर्ण, पूरा; (सं. पुं.) वंश, घराना, घर, जाति, देह, समूह, झुण्ड, व्यक्ति, समुदाय, वाम-मार्ग, कौल-धर्म, वंश की मयादा, व्यापारियों

का समूह या संघ, मूलाधार चक्र;
 -जमा-(वि.)सब मिलाकर ।
 कुलकंटक-(सं.पुं.) वंश का कण्टक-स्वरूप
 व्यक्ति, जो मनुष्य कुल का कांटा हो ।
 कुलक-(सं.पुं.) कुचला, परवर की लता,
 हरा साँप, दीमक की निकाली हुई मिट्टी,
 समूह, भोग्य-वस्तु, परस्पर, सम्बन्ध ।
 कुलकना-(हिं. क्रि. अ.) प्रसन्न होना,
 आनन्द से हँसना, बोलना ।
 कुलकर्ता-(सं. पुं.) वंश-स्थापक, वंश
 चलानेवाला ।
 कुलकलंक-(सं.पुं.) वंश में धब्बा लगाने-
 वाला, वंश को अपमानित करनेवाला ।
 कुलकलंकिनी-(सं. स्त्री.) वाप या ससुर
 के घराने को अपमानित करनेवाली स्त्री ।
 कुलकानि-(हिं. स्त्री.) वंश की मर्यादा,
 कुल की लज्जा ।
 कुलकुलाना-(हिं. क्रि.अ.) कुलकुल करना,
 धीरे-धीरे बोलना, प्रसन्न होना ।
 कुलक्रिया-(सं.स्त्री.) कुल का कार्य, घराने
 का काम ।
 कुलक्षण-(सं. पुं.) बुरा लक्षण, कुरीति,
 बुरी चाल; (वि.) दुराचारी ।
 कुलक्षय-(सं. पुं.) वंश का अघःपतन
 और ध्वंस ।
 कुलगरिमा-(सं. स्त्री.) वंश-गौरव, वंश
 का बड़प्पन ।
 कुलज्ज-(सं. वि.) वंश-नाशक, परिवार
 को विगाड़नेवाला ।
 कुलचा-(हिं. पुं.) खमीर की रोटी,
 तम्बू के छेके के ऊपर लगाने का लट्टू ।
 कुलच्युत-(सं. वि.) जाति से नहिष्कृत
 किया हुआ ।
 कुलच्छन-(हिं. पुं.) देखें 'कुलक्षण' ।
 कुलच्छनी-(हिं. स्त्री.) बुरे लक्षणवाली स्त्री ।
 कुलट-(सं. पुं.) अपने घराने को त्याग-
 कर दूसरे के कुल में रहनेवाला, व्यभि-
 चारी, मुमुक्षु के अतिरिक्त क्षेपज, दत्तक
 या श्रौत पुत्र ।
 कुलटा-(सं. स्त्री.) व्यभिचारिणी स्त्री,
 पुंनली, अनेक पुरुषों से प्रेम करनेवाली
 परकीया नायिका ।
 कुलतारन-(हिं. वि.) वंश को पवित्र
 करनेवाला, कुल को तारनेवाला ।
 कुलतिथि-(सं. स्त्री.) तन्त्रमत से चतुर्थी,
 अष्टमी, द्वादशी तथा चतुर्दशी तिथि ।
 कुलतिलक-(सं. पुं.) वंश में सन्नेह गेष्ट
 लक्षण ।
 कुलर-(सं. पुं.) पुत्र, कुलाधी, वंशकी
 उद्धार ।

कुल्य-(हिं. पुं.), कुलयी-(सं. स्त्री.)
 उद्द के प्रकार का एक मोटा अन्न ।
 कुलदीप-(सं. वि.) कुलश्रेष्ठ ।
 कुलदूषण-(सं. वि.) वंश में दोष लगानेवाला ।
 कुलदेवता-(सं. पुं.) वंश के आराध्य
 देवता, जिस देवता की वंश में परंपरा
 से पूजा होती हो ।
 कुलदेवी-(सं. स्त्री.) वंश परंपरा से
 पूजित देवी ।
 कुलधर्म-(सं. पुं.) परंपरा से चला
 आता हुआ वंश का कर्तव्य, वंशधर्म ।
 कुलनंदन-(सं. पुं.) अपने अच्छे आचरण
 से वंश को प्रसन्न करनेवाला पुरुष ।
 कुलन-(हिं. स्त्री.) पीड़ा, कष्ट ।
 कुल-नक्षत्र-(सं. पुं.) ज्योतिष के अनु-
 सार भरणी, रोहिणी, पुष्य, मघा,
 उत्तराफाल्गुनी, चित्रा, विंशासा, ज्येष्ठा,
 पूर्वाषाढ़, श्रवण और उत्तरा भाद्रपद ।
 कुलना-(हिं. क्रि.अ.) दुखना, टीसना ।
 कुलपति-(सं.पुं.) वंश का स्वामी, विद्याभियं
 का भरण-पोषण करनेवाला तथा उनको
 शिक्षा देनेवाला गुरु, दस हजार मुनियों को
 अन्नदानादि देकर पढ़ानेवाला ऋषि ।
 कुलपूज्य-(सं. वि.) जो परंपरा से वंश
 में पूजित होता चला आया हो ।
 कुलफा-(हिं. पुं.) एक प्रकार का शक ।
 कुलफा-(हिं. स्त्री.) धातु का बना हुआ
 चाँगा जिसमें दूध आदि भरकर बरफ
 जमाया जाता है, पेच, छोटा कुलफ,
 पीतल या ताँबे की टेडी नली ।
 कुलमघ-(हिं. स्त्री.) भले घराने की स्त्री ।
 कुलमांसा-(हिं. पुं.) करगह का मांस
 जिसमें जुलाह कधी चाँवते हैं ।
 कुलबुल-(हिं. पुं.) छोटे-छोटे कीड़ों की
 गति का शब्द ।
 कुलबुलाना-(हिं. क्रि.अ.) धीरे-धीरे हिलना-
 डोलना, छोटे-छोटे जीवों का नरकना,
 गंचल होना, रेंगना ।
 कुलबुलाहट-(हिं. स्त्री.) हिलना-डोलना,
 गंचलता ।
 कुलघोरन-(हिं. वि.) वंश को पुजाने-
 वाला, मर्यादा का नाम करनेवाला,
 कुल-नाशक ।
 कुलभूषण-(सं. पुं.) देखें 'कुलविशाल' ।
 कुलवंत-(सं. पुं.) कुलकाय, कुलीन ।
 कुलवर्धन-(सं. वि.) वंश की उन्नति
 करनेवाला ।
 कुलवाम-(सं. वि.) विम, वंश-पुत्रका ।
 कुलवाम-(सं. स्त्री.) अपनी परमात्मा की स्त्री ।
 कुलवृ-(हिं. स्त्री.) टाँस, तपेट करने-

वाले पक्षियों की जाँच डोपने की टोपी,
 जंघियारी, टक्कन ।
 कुलहा-(हिं. पुं.) देखें 'कुलह' ।
 कुलही-(हिं. स्त्री.) बच्चों का कनटाण ।
 कुलांगना-(सं. स्त्री.) कुलवधु ।
 कुलानार-(सं. पुं.) कुल का गौरव नष्ट
 करनेवाला ।
 कुलांच-(हिं. स्त्री.) दोनों हाथों के बीच का
 अंतर, उद्याल, छतोंग, नोकड़ी ।
 कुलांचना-(हिं. क्रि. अ.) छतोंग भरना ।
 कुलांट-(हिं. स्त्री.) देखें 'कुलांच' ।
 कुलाचल-(सं.पुं.) पर्वत विभाग, कुल पर्वत ।
 कुलाचार-(सं. पुं.) वंश का उचित धर्म ।
 कुलाचार्य-(सं.पुं.) कुलगुरु, कुल पुरोहित ।
 कुलाधि-(हिं. स्त्री.) पाप, दोष, ऐंद्र ।
 कुलावा-(हिं. पुं.) किवाड़ को चाँवते से
 अकड़ने का कांटा, मच्छी फेंगाने का कांटा ।
 कुलाभिमान-(सं. पुं.) वंश का अभिमान ।
 कुलाल-(सं. पुं.) कुम्भकार, फोहार,
 जंगली मुर्गा, कुम्भीर, घड़ियाल ।
 कुलाली-(सं. स्त्री.) कुम्हारिन, जंगली
 कुलधी, दूरदर्शक वन ।
 कुलाह-(सं. पुं.) कुछ पीले रंग का फोंड़ा
 जिसके पैर काले हों, लाल तालमनामा ।
 कुलाहल-(हिं. पुं.) देखें 'लोकाहल' ।
 कुलिया-(सं. पुं.) चटक पक्षी, गोरैया,
 कोई चिड़िया या पक्षी ।
 कुल्लिद-(सं. पुं.) एक जनपद विभाग ।
 कुलि-(हिं. अक्षर.) नम्पुर्ण, नय ।
 कुलिभ-(सं. वि.) मिलाहार, कागोहर ।
 कुलिज-(सं. पुं.) गन्ध, नदों ।
 कुलिद-(सं. पुं.) दण्ड, विशदो, कुलार
 फरसा, हीरा, मकरन्द की देव ।
 कुलिप्रपाणि-(सं. पुं.) बज्रधर, उष्ट ।
 कुली-(हिं. पुं.) बौद्ध उक्तसंगत मर्यादा
 मोटिया; -नरारी (ही)- (पुं) गौर
 जाति का मन्थर ।
 कुलीन-(सं. वि.) अपने वंश में
 धरते घराने का, किलतु ।
 कुलीना-(सं. स्त्री.) वंश प्रसार के
 आगे धरती का नाम ।
 कुलीर-(सं. पुं.) शेर के वंश ।
 कुलु-(सं. पुं.) विद्वान्, लोच विम ।
 कुलु-(सं. पुं.) कल ।
 कुलु-(सं. पुं.) गौरव के नाम का एक पर्वत ।
 कुलु-(सं. पुं.) पुं, कलकत्ता स्थित ।
 कुलु-(सं. स्त्री.) कुलीन स्त्री ।
 कुलु-(सं. वि.) कुलीन वंश ।
 कुलु-(सं. वि.) कुलीन वंश ।

कुलेश्वर—(सं.पुं.) कुलपति, धिव, महादेव।
 कुलेस्वरी—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी।
 कुल्यी—(हि. स्त्री.) देखें 'कुल्यी'।
 कुलम्—(हि. पुं.) कुलफ, ताला।
 कुलम्भी—(हि. स्त्री.) देखें 'कुलम्भी'।
 कुलमाप—(सं. पुं.) कुलयी, उड़द, वांस,
 जटामासी, एक प्रकार का धान, दो
 दालोंवाला अन्न, खिचड़ी, काँजी।
 कुल्य—(सं. वि.) अच्छे कुल का, माननीय।
 कुल्या—(सं. स्त्री.) कृत्रिम नदी, नहर,
 परनाला, कुलस्त्री।
 कुल्लव—(सं. पुं.) देखें 'कुल्लुक'।
 कुल्ला—(हि. पुं.) मुख में पानी भरकर
 तथा चारों ओर घुमाकर दाहर फेंकने
 का कार्य, मुँह में भरा हुआ जल, गरारा,
 ऊँच के खेत की सिंचाई, कुत्तल, काकुल,
 पीठ की रीढ़ पर काले रंग की धारीवाला
 घोड़ा।
 कुल्ली—(हि. स्त्री.) देखें 'कुल्ला'।
 कुल्लुक—(हि. पुं.) एक प्रकार का वांस।
 कुल्लूक—(सं. पुं.) मनुसंहिता के प्रसिद्ध
 टीकाकार।
 कुल्हड़—(हि. पुं.) पुरवा, चुक्कड़।
 कुल्हाड़ा—(हि. पुं.) लकड़ी चौरने-
 फाड़ने का एक अस्त्र, कुठार।
 कुल्हाड़ी—(हि. स्त्री.) छोटा कुल्हाड़ा, टाँगी।
 कुल्हिया—(हि. स्त्री.) छोटा पुरवा या
 कुल्हड़।
 कुल्ह—(सं.पुं.) निन्दा, बुरी बात, बुराई।
 कुवल—(सं. पुं.) वर का फल, जल, सर्प
 का पेट।
 कुवल्य—(सं. पुं.) नीलपत्र, कुई, कोका,
 भूमण्डल, एक प्रकार के असुर।
 कुवलदानंद—(सं. पुं.) अलंकार का एक
 प्रसिद्ध ग्रन्थ।
 कुवलयापीड—(सं. पुं.) एक दैत्य जिसने
 हाथी का रूप धारण करके कृष्ण पर
 आक्रमण किया था और उनके द्वारा
 मारा गया था।
 कुवलयाशन—(सं. पुं.) ध्रुवमार राजा का
 नाम, ध्रुवजित् राजा का पुत्र, मुनियों
 के यज्ञ को नाश करनेवाला अनुर
 पातालोत्पन्न को मारने के लिये आतान
 ने मृत्यु का भेजा हुआ घोड़ा।
 कुवलयेजय—(सं.पुं.) कुवल्य पर सोनेवाले
 विष्णु।
 कुवली—(वि. पुं.) कुआँ, कुआँ।
 कुवली—(हि. पुं.) जंगली कुन्दाव, चेत
 में गंधकार लकड़ा निगा अन्न।
 कुवाप—(सं. पुं.) कुत्तल घान्य, दुर्वचन,

बुरी बात, गाली।
 कुवाच्य—(सं. वि.) जो कहने योग्य न
 हो; (पुं.) दुर्वचन।
 कुवाट—(सं. पुं.) कपाट, द्वार, किवाड़।
 कुवाण—(हि. पुं.) घनुप, कमान।
 कुवाद—(सं. पुं.) परिव्राट, बुरी बात।
 कुवार—(हि. पुं.) आश्विन का महीना।
 कुवारी—(हि. वि.) आश्विन संबंधी।
 कुवासना—(सं. स्त्री.) बुरा अभिप्राय।
 कुविचार—(सं. पुं.) बुरा विचार।
 कुविचारी—(सं. वि.) बुरे विचारवाला।
 कुविद—(सं. पुं.) जुलाहा, कोरी।
 कुविदवा—(सं. पुं.) कांस्यकार, कसेरा।
 कुविवाह—(सं.पुं.) शास्त्र के विरुद्ध विवाह।
 कुवृत्ति—(सं. स्त्री.) निन्दित आचरण।
 कुवेर—(सं. पुं.) यक्षों का राजा तथा इन्द्र
 की नवनिधियों के भण्डारी तथा महादेव
 के मित्र।
 कुवेरक—(सं. पुं.) शहतूत का वृक्ष।
 कुवेराचल—(सं. पुं.) कैलास पर्वत।
 कुवैद्य—(सं. पुं.) कुत्सित वैद्य।
 कुश—(सं. पुं.) काँस जाति की एक
 घास जिसका उपयोग यज्ञादि में होता
 है, रामचन्द्र के ज्येष्ठ पुत्र का नाम,
 जल, सर्प का पेट; (वि.) पापिष्ठ, पापी।
 कुशकंडिका—(सं. स्त्री.) वेदी का एक
 वैदिक संस्कार।
 कुशद्वीप—(सं. पुं.) पुराणों के अनु-
 सार एक टापू जो चारों ओर से घृत-
 समुद्र से घिरा है।
 कुशध्वज—(सं. पुं.) राजा जनक के छोटे
 भाई जिनकी दो पुत्रियाँ भरत और
 शत्रुघ्न को ब्याही थीं।
 कुशरीर—(सं. वि.) बुरे शरीरवाला।
 कुशल—(सं. पुं.) कल्याण, मंगल, शिव;
 (वि.) पुण्यशील, चतुर, शिक्षित, दक्ष,
 प्रवीण; -क्षेम—(पुं.) राजीखुशी;
 -ता—(स्त्री.) कौशल, चालाकी, निपु-
 णता, दक्षता, योग्यता, कुशल-क्षेम;
 -प्रश्न—(पुं.) राजी-खुशी की पूछताछ;
 -बुद्धि—(वि.) शिक्षित, चतुर, निपुण।
 कुशलई—(हि. स्त्री.) कुशल, कुशलता,
 निपुणता।
 कुशा—(हि. पुं.) देखें 'कुश'।
 कुशाक्ष—(सं. पुं.) वन्दर, वानर।
 कुशाग्र—(सं. पुं.) कुश का आगे का भाग,
 कुश की नोक के समान पतला और
 तीक्ष्ण।
 कुशाग्रबुद्धि—(सं. वि.) तीक्ष्ण बुद्धिवाला।
 कुशासन—(सं. पुं.) यज्ञ-उपासना इत्यादि

के लिये कुश का बना हुआ आसन,
 बुरा राज्य-प्रबन्ध।
 कुशिक—(सं. पुं.) विश्वामित्र के दादा
 का नाम, फाल, तेल का किट्ट, भेलावे
 का तेल, वेर।
 कुशिका—(सं. स्त्री.) हल का फाल।
 कुशी—(सं. स्त्री.) देखें 'कुशिका'।
 कुशीद—(सं.पुं.) लालचन्दन, हल का फाल।
 कुशीनगर—(सं. पुं.) बुद्धदेव का निर्वाण-
 स्थान।
 कुशीनार—(हि. पुं.) देखें 'कुशीनगर'।
 कुशील—(सं. वि.) मन्द स्वभाव का, असम्य।
 कुशीलव—(सं. पुं.) नट, भाट, गायक
 गानेवाला, कथक, वाल्मीकि मुनि।
 कुशीवश—(सं. पुं.) वाल्मीकि ऋषि।
 कुशूलघान्य—(सं. पुं.) तीन वर्ष तक के
 आहार के लिये संचित घान्य।
 कुशूलघान्यक—(सं. पुं.) कुशूलघान्य संचित
 करनेवाला मनुष्य।
 कुस्ती—(फा. स्त्री.) दो पहलवानों का
 मल्लयुद्ध, दो की भिड़कर होनेवाली
 लड़ाई, -वाज—(पुं.) कुस्ती लड़ने-
 वाला; (मुहा.) -खाना-कुस्ती में
 हार जाना; -मारना-कुस्ती में जीतना।
 कुश्रुत—(सं. वि.) स्पष्ट न सुना हुआ।
 कुष्ठ—(सं. पुं.) कोढ़ रोग, कुट नामक
 औषधि।
 कुष्ठित—(सं. वि.) कुष्ठ रोगयुक्त।
 कुष्ठी—(सं. वि.) कुष्ठरोगयुक्त, कोढ़ी।
 कुष्मांड—(सं. पुं.) कुम्हड़ा, सीताफल।
 कुष्मांडक—(सं. पुं.) कुम्हड़ा, शिव के
 अनुचर।
 कुष्मांडी—(सं. स्त्री.) कुष्माण्ड की लता,
 योग की एक क्रिया, दुर्गा देवी का एक
 नाम, पार्वती।
 कुसंग—(सं. पुं.) कुत्सित संग।
 कुसंगति—(सं. स्त्री.) कुसंग।
 कुसंस्कार—(सं. पुं.) बुरा संस्कार, मन
 में बुरी बातों का जमना।
 कुसगुन—(सं. पुं.) अपशकुन, बुरा लक्षण,
 असगुन।
 कुसमय—(सं. पुं.) कुत्सित समय, संकट
 का समय, बुरा समय, दुःख के दिन।
 कुसर—(हि. पुं.) पानी में उगनेवाली
 एक लता की जड़ जो औषधि में व्यवहृत
 होती है।
 कुसल—(हि. पुं.) देखें 'कुशल'।
 कुसलई—(हि. स्त्री.) क्षेम, निपुणता।
 कुसलछेस—(हि. पुं.) देखें 'कुशल-क्षेम'।
 कुसलता—(हि. पुं.) कुशलता।

कुसलाई—(हि. स्त्री.) निपुणता, कुशलता, कुशलक्षेम ।
 कुसली—(हि. स्त्री.) आम की गुठली, एक पकवान, गोक्षा, पिराक, अश्मांतक, धनामलकी ।
 कुसवा—(हि.पुं.) धान में लगनेवाला एक रोग ।
 कुसवारी—(हि. पुं.) रेशम का जंगली कोड़ा, रेशम का कोथा ।
 कुसहाय—(सं.पुं.) बुरा साथी, कुत्सित संगी ।
 कुसाक्षत—(हि. स्त्री.) कुसमय, कुमुहूर्त ।
 कुसाखी—(हि. पुं.) कुत्सित साक्षी ।
 कुसिया—(हि. स्त्री.) बेल-बूटा बनाने की सूई ।
 कुसियार—(हि. पुं.) एक प्रकार की कोमल ऊब ।
 कुसी—(हि. स्त्री.) हल का फाल ।
 कुसीद—(सं.पुं.) व्याज के लिये रुपया उधार देने का काम, व्याज के लिये ऋण देनेवाला ।
 कुसुम्ब—(हि. पुं.) देखें 'कुसुम्ब' ।
 कुसुम्ब—(सं.पुं.) कुसुम नामक पुष्प विशेष ।
 कुसुम्भा—(हि. पुं.) कुसुम का रंग, धुली हुई अफीम ।
 कुसुम्भी—(हि. वि.) लाल रंग का ।
 कुसुम—(सं.पुं.) पुष्प, फूल, मेवा, स्त्री का मासिक घर्म, आँख का रोग, छोटे-छोटे बावणवाला गद्य, एक प्रकार का छन्द, पीले फूलों का एक पेड़, बरें, कुसुम ।
 कुसुमचाप—(सं.पुं.) कन्दर्प, कामदेव ।
 कुसुमगुप्तर—(सं.पुं.) पाटलिपुत्र, पटना नगर ।
 कुसुमफल—(सं.पुं.) जातीफल, जायफल ।
 कुसुमवाण—(सं.पुं.) कन्दर्प, कामदेव ।
 कुसुमनय—(सं.वि.) फूलों से भरा हुआ ।
 कुसुमरेणु—(सं.पुं.) फूल का पराग ।
 कुसुमवती—(सं. स्त्री.) रजस्वला स्त्री ।
 कुसुमचिन्मिता—(सं. स्त्री.) एक वर्णवृत्त ।
 कुसुमशयन—(सं.पुं.) फूलों का बिछौना ।
 कुसुमसर—(सं.पुं.) कामदेव का पुष्पवाण ।
 कुसुमस्तम्भक—(सं.पुं.) फूलों का गुच्छा, यष्क नाति का एक छन्द ।
 कुसुमांशु—(सं. स्त्री.) हाथ की अंजलि में फूल भरकर देवता पर नमना, पुष्पांशुति ।
 कुसुमा—(सं. स्त्री.) जलरत्न का वृक्ष, चाणक्य ।
 कुसुमालय—(सं.पुं.) बगीचा, पुष्प, रमण भवन ।
 कुसुमागम—(सं.पुं.) कन्या गमन ।

कुसुमाविष—(सं.पुं.) चम्पा का वृक्ष ।
 कुसुमायुध—(सं.पुं.) कन्दर्प, कामदेव ।
 कुसुमासव—(सं.पुं.) मयू ।
 कुसुमालय—(सं.पुं.) कामदेव का वाण ।
 कुसुमावली—(सं. स्त्री.) फूलों का गुच्छा ।
 कुसुमित—(सं. वि.) पुष्पित, फूला हुआ ।
 कुसुमितलता-बोलिलता—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द ।
 कुसुत—(हि. पुं.) बुरा धागा, बुरा प्रबंध ।
 कुस्तुभ—(सं.पुं.) विष्णु, समुद्र ।
 कुस्त्री—(सं. स्त्री.) व्यभिचारिणी ।
 कुस्वप्न—(सं.पुं.) बुरा सपना ।
 कुस्वामी—(सं.पुं.) बुरा मालिक या पति ।
 कुस्ता—(सं.पुं.) कुदाल, कुदाली ।
 कुहक—(सं.पुं.) प्रतारक, धोखा देनेवाला, ऐन्द्रजालिक, बन्दी, धोखा, फरेब, धूर्तता, मेढक ।
 कुहकना—(हि. कि. अ.) मीठा बोलना, पिहिकना, (मोर या कांयल की बोली के लिये प्रयोग होता है) ।
 कुहकी—(सं. वि.) मायावी, धनी ।
 कुहना—(हि. कि. अ.) मार-मारकर कच्चा-मर निकालना ।
 कुहनी—(हि. स्त्री.) हाथ और बांह के जोड़ की हड्डी, टेढ़ी बनी हुई नली; (पुं.)—उड़ान-मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
 कुहण—(हि. पुं.) रात्रिचर, राधास ।
 कुहुर—(सं.पुं.) छिद्र, गड्ढा, नूना हुआ अन्न, कान का छिद्र, कण्ठ, गला; (हि. स्त्री.) वहरी नामक पक्षी जो चिड़ियों को पकड़ लेता है ।
 कुहरा—(हि. पुं.) जल का अत्यन्त गूढम कण जो ठंडक पाकर वायु में नाचता जम जाता है और धीरे-धीरे नूनि पर उतरता है ।
 कुहरान—(हि.पुं.) कोलाहल, निराप का मन्द, उद्वेग, हास हास ।
 कुहाणा—(हि. कि. अ.) मन ही मन मूक होना, रुझना ।
 कुहारा—(हि. पुं.) कुठार, कुहाड़ी ।
 कुहाता—(हि. पुं.) दैम 'कुहाट' ।
 कुही—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की निवारी चिड़िया, कुहर ।
 कुह—(सं. स्त्री.) अनासक्त, नीकल की बोली का वृक्ष ।
 कुहक—(हि. पुं.) गहिरों का मूल, कुहक, पत्त ।
 कुहपना—(हि. वि. अ.) गहिरों का मूल उतर में होना ।
 कुहपण—(हि. पुं.) कुहपण, नीकल

या वाण जिनको छोड़ने में मयूर गदग होता है ।
 कुह—(सं. स्त्री.) नीकल की ध्वनि, जिन अनासक्तों को चन्द्रमा विह्वल नहीं करता ।
 कुहक, कुहकट—(सं.पुं.) कोकिल, कोयल ।
 कुहमूर, कुहरव—(सं.पुं.) दैम 'कुहाट' ।
 कुहेड़ी, कुहलिया—(सं. स्त्री.) कुहरा ।
 कुह—(हि. स्त्री.) कोयल, कांयल ।
 कुहना—(हि. कि. अ.) पीड़ित अवस्था में करणजनक शब्द निकालना, कांगना ।
 कुह (गा)—(हि.पुं.) कमेरे का पुरातन का यन्त्र, बबूल की छाल का काड़ा जिनमें चमड़ा पकाया जाता है ।
 कुंच—(हि. स्त्री.) कुहाड़े की कुंची, लोहार की बड़ी सेंडनी, एड़ी के ऊपर की बड़ी नस ।
 कुंचना—(हि. कि. अ.) दुकड़े-दुकड़े करना, तोड़ना, कुचलना, मारना-पीटना ।
 कुंचा—(हि. पुं.) झाड़ू, दुहाड़ी ।
 कुंची—(हि. स्त्री.) छोटी कुंची, छोटी झाड़ू, चिचकार की रंग पोतने की कलम; (मुहा.)—देना-कैची से नाफ करना ।
 कुंच—(हि.पुं.) काँच पक्षी, करागुच्छ पक्षी ।
 कुंचा—(हि. पुं.) नाग, भागी तथा फल बेचनेवाली एक जाति, कुंचा ।
 कुंचड़ी—(हि. स्त्री.) कुंचड़े की रानी ।
 कुंच—(हि. पुं.) घर में पतिव्रता की रानी की टोपी, पानी भरने का बोला या मिट्टी का गहरा पात्र, रोस में हल में बनी हुई लतौर, कठौना, मोमवर्ती जलाने की पड़े के आकार की नाँच की बड़ी लोड़ी ।
 कुंच—(हि. पुं.) नारा तथा लोहे की रानी का पात्र जिसे में कच रसा जाता है, पीरे रसाने का मयू, दीनक जलाने की बड़ी लोड़ी, पीर, कठौना ।
 कुंची—(हि. स्त्री.) कचर की लोड़ी, कचरी, छोटी कौर, सोपू के पीर का गदग ।
 कुंचक—(हि. वि. अ.) पुरातन, कांयल, मारना, पीटना, कुंचक का शब्द करना ।
 कुंची—(हि. स्त्री.) कुचक, पीर ।
 कुंच—(हि. स्त्री.) कचर, मोर का लोहा की बोली बोली, पीरे का लोहा से बनी लोड़ी का लोहा ।
 कुंचा—(हि. पुं.) कुंचा, पीर ।
 कुंच—(हि. पुं.) कुंचा, पीर ।
 कुंच—(हि. पुं.) कुंचा, पीर ।

भोजन का अंश, तुच्छ वस्तु; -निदिया-
(स्त्री.) कुत्ते के समान हलकी नौद ।
कूका-(हि.पुं.) एक नानकपन्थी सम्प्रदाय ।
कूकी-(हि. स्त्री.) क्षेत्र की उपज को
विगाड़नेवाला एक कीड़ा ।
कूकुर-(सं. पुं.) कुक्कुर, कुत्ता ।
कूच-(सं.पुं.) प्रस्थान, रवानगी; (महा.)
-कर जाना-दुनिया से चले जाना,
मर जाना; -बोलना-प्रस्थान करना ।
कूचिका-(सं. स्त्री.) छोटी चामी, चित्र-
कार की कूची ।
कूची-(हि.स्त्री.) चित्र बनाने की लेखनी,
छोटी झाड़, कूची ।
कूज-(हि.स्त्री.) ध्वनि, बोली; -क-
(वि.) अव्यक्त शब्द बोलनेवाला ।
कूजन-(सं.पुं.) चिड़ियों की बोली, पेट की
गुड़गुड़ाहट, गाड़ी के पहियों का शब्द ।
कूजना-(हि. क्रि. अ.) कूकना, चहकना,
मधुर ध्वनि करना ।
कूजा-(हि. पुं.) बेले या मोतिये का फूल ।
कूजित-(सं. वि.) ध्वनित, शब्द किया
हुआ, कूजन से गुंजित ।
कूट-(सं. पुं.) पहाड़ का गिखर, कँगूरा,
मुकुट, अग्र-भाग, समूह, लोहे की
मुंगरी, हल का फाल, हरिन के पकड़ने
का जाल, गुप्ती छड़ी, मिथ्या, झूठ,
टूटा हुआ सींग, नगर का द्वार, घर,
छोटा पेट, लोहसार, टूटे सींग का बेल,
पीतल, छल, ढेर, गुप्त रहस्य, गुहार्य,
व्यंग्य; (वि.) निश्चल, ठहरा हुआ,
कृत्रिम, बनावटी, भ्रष्ट किया
हुआ, विधिष्ट, प्रवान; (हि. पुं.) कूट
नामक औषधि, कुटी, झोपड़ा ।
कूटकर्म-(सं. पुं.) छल, धोखा, छिपाकर
किया हुआ काम ।
कूटकर्मा-(सं.पुं.) छली, कपटी ।
कूटकार-(सं. वि.) वंचक, झूठी गवाही
देनेवाला ।
कूटता-(सं.स्त्री.) काठिन्य, कड़ाई, असत्य,
छल, कपट, झूठापन ।
कूटत्व-(सं. पुं.) देखें 'कूटता' ।
कूटधर्मा-(सं. वि.) मिथ्या व्यवहार को
धर्मार्थ बतलानेवाला ।
कूटना-(हि. क्रि. स.) किसी पदार्थ को
कार से घड़ायड़ पीटना, ठोंकना,
मारना-पीटना, पत्थर की सिल, जंगि
प्रसादि में टांकी से छोटे-छोटे गड्डे
बनाना, चरित्रा करना; (महा.) झूट-कूट-
कर भरना-धरती तरह कगकर भरना ।
कूटनीति-(सं. स्त्री.) कपटनीति, धोखे

की चाल ।
कूटपाश-(सं.पुं.) पक्षियों को पकड़ने का यंत्र ।
कूटमान-(सं. पुं.) परागैवाला तराजू ।
कूटयुद्ध-(सं. पुं.) शत्रु को घोखा देनेवाली
लड़ाई ।
कूटयोधी-(सं. वि.) छिपकर लड़नेवाला ।
कूटलेख-(सं. पुं.) समझ में न आने-
वाली लिखावट ।
कूटशासन-(सं. पुं.) मिथ्या शासन,
धोखे का राज्य ।
कूटसाक्षी-(सं. पुं.) झूठ बोलनेवाला साक्षी ।
कूटस्थ-(सं. वि.) श्रेष्ठ, सबसे ऊपर
रहनेवाला, निश्चल, सर्वदा यासब कालों
में एक-सा रहनेवाला, गुप्त, अविनाशी ।
कूटागार-(सं. पुं.) घर के ऊपरी खण्ड
का मण्डप, क्रीड़ागृह ।
कूट-(हि. पुं.) एक वृक्ष जिसके फल
के बीजों का आटा पीसकर फलाहार
में व्रत के दिन व्यवहार किया जाता है ।
कूड़ा-(हि. पुं.) झाड़न, मैल, कतवार,
व्यर्थ वस्तु; -खाना-(पुं.) कूड़ा फेंकने
का स्थान, घूर ।
कूड़-(हि. पुं.) परिहृत, हल का वह भाग
जिसमें एक ओर मुठिया और दूसरी
ओर खोंपा रहता है, हल की गड़ारी में
से बीज बाने की रीति; (वि.) अज्ञान,
मूर्ख; -मगज-(पुं.) मन्दबुद्धि,
वात न समझनेवाला ।
कूणि-(सं. वि.) बक्रहस्त, टेढ़े हाथवाला ।
कूत-(हि. स्त्री.) अनुमान, किसी वस्तु
की संख्या, मूल्य अथवा परिमाण का
विना गिने या नापे निर्धारण ।
कूतना-(हि.क्रि.न.) अटकल से किसी वस्तु
की संख्या, परिमाण इत्यादि बतलाना ।
कूद-(हि. स्त्री.) कूदने की क्रिया, कुदाई ।
कूदना-(हि.क्रि.अ.,सं.) उछलना, फाँदना,
छलांग मारना, हस्ताक्षेप करना, कम
भंग करना, अत्यन्त प्रसन्नता दिखलाना,
उल्लंघन करना, लाँघना, विघ्न डालना ।
कूनी-(हि. स्त्री.) कोलू का गड्डा
जिसमें पेरने को लिये ऊँच डाली जाती है ।
कूप-(सं. पुं.) कुआँ, इनारा, गर्त, छेद,
खात, गड्डा; -कार-(पुं.) कुआँ खोदने-
वाला; -ज-(पुं.) लोम, केश, बाल;
-ददुर-(पुं.) कुएं का मेढक, अनुभवहीन
मनुष्य; -मदूक-(पुं.) देखें 'कूपददुर' ।
कूपी-(सं. स्त्री.) छोटा कुआँ, नामि,
छोटा पात्र, कुपी ।
कूवड़-(हि. पुं.) पीठ का उभड़ा हुआ
टेढ़ापन, बक्रभाव, टेढ़ापन ।

कूवर-(हि. पुं.) कूवड़ ।
कूवरी-(सं. पुं.) रथ, गाड़ी, सगड़;
(हि. वि. स्त्री.) कुब्जा, कुवड़ी ।
कूबा-(हि. पुं.) कूवड़, बँडेरा रखने को
टेढ़ी लकड़ी ।
कूर-(हि. पुं.) देखें 'कूरा', ढेर; (वि.)
कूर, निर्दय, दुष्ट, दयारहित, भयावना,
डरावना, मूर्ख, जड़बुद्धि ।
कूरता-(हि. स्त्री.) देखें 'कूरता' ।
कूरपन-(हि. पुं.) देखें 'कूरता' ।
कूरम-(हि. पुं.) देखें 'कूम' ।
कूरा-(हि. पुं.) रात्रि, ढेर, भाग, अंश ।
कूरी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास,
छोटा ढेर ।
कूर्च-(सं. पुं.) दोनों भौंहों के बीच का
स्थान, मोर-पंख, दाढ़ी-मूँछ, घोखा, छल,
धमंड, झूठी बात, कपट, मस्तक, भण्डार;
-शेखर-(पुं.) नारियल का वृक्ष ।
कूर्चिका-(सं.स्त्री.) चामी, सूई, फूल की
कली, फटा हुआ दूध, चित्रकार की कूची ।
कूर्दन-(सं. पुं.) बालकों का खेलकूद ।
कूर्प-(सं. पुं.) सौहों के बीच का भाग ।
कूर्पर-(सं. पुं.) केहुनी, घुटना ।
कूर्म-(सं. पुं.) कच्छप, कछुवा, पृथ्वी, प्रजा-
पति का एक अवतार, विष्णु का दूसरा अव-
तार, तन्त्र शास्त्र के अनुसार एक मुद्रा,
एक आसन विशेष, शरीर में की वह वायु
जो पलकों को खोलती और बन्द करती
है; -पुराण-(पुं.) अठारह प्रसिद्ध
पुराणों में से एक का नाम; -पृष्ठ-
(पुं.) कछुवे की पीठ ।
कूर्मा-(सं. पुं.) एक प्रकार की वीन ।
कूल-(सं. पुं.) नदी का किनारा, खंभा,
तालाब, सेना का पिछला भाग, समीप,
पास, नहर; -चर-(वि.) नदी के तीर
पर घूमनेवाला पशु ।
कूला-(हि.पुं.) कृत्रिम जलप्रवाह, नाली ।
कूलिनी-(सं. स्त्री.) नदी ।
कूलो-(हि. पुं.) देखें 'कूलो' ।
कूलहना-(हि. क्रि.अ.) काँखना, कराहना,
आह भरना ।
कूल्हा-(हि. पुं.) नेड़ के दोनों ओर
उभड़ी हुई हड्डी, मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
कूपमांड-(सं. पुं.) कुम्हड़े की लता ।
कूपमांडिनी, कूपमांडी-(सं. स्त्री.) एक
देवी का नाम ।
कूह-(हि. स्त्री.) हाथी का विम्बाड़,
चित्लाहट, चीख ।
कूहा-(सं. स्त्री.) गुहरा ।
कूक-(सं. पुं.) ऊण्ड, गला ।

कृकर-(सं. पुं.) शिव, शरीर की वायु जो ठीक लाती है, कनेर का वृक्ष।
कृकलास-(सं. पुं.) गिरगिट।
कृच्छ्र-(सं. पुं.) दुःख, कष्ट, पाप; सत्तापन आदि व्रत जिसमें पहिले निराहार रहकर दूसरे दिन पञ्चगव्य पीकर उपवास किया जाता है, मूत्रकृच्छ्र रोग; (वि.) कष्ट देनेवाला, बलेशयुक्त; -कर्म-(पुं.) कष्टसाध्य कर्म, कठिनता से होनेवाला कार्य; -साध्य-(वि.) कष्टसाध्य, कठिनता से होनेवाला।
कृत-(सं. वि.) सम्पादित, किया हुआ, प्रस्तुत, तैयार, प्राप्त, यथेष्ट, अभ्यस्त, नमीप का, पर्याप्त, बनाया हुआ; (पुं.) चार युगों में से पहिला युग।
कृतकर्मा-(सं. वि.) दक्ष, चतुर, जो अपना काम कर चुका हो; (पुं.) परमेश्वर।
कृतकार्य-(सं. वि.) कृतार्थ, सफल।
कृतकाल-(सं. पुं.) निर्धारित समय।
कृतकौत्सि-(सं. वि.) यश लाभ करनेवाला।
कृतकृत्य-(सं. वि.) सम्पूर्ण रूप से अपने भार्य का साधन करनेवाला, चतुर, संतुष्ट, मूक्त।
कृतकृत्यता-(सं. स्त्री.) सफलता।
कृतकौतुक-(सं. वि.) खेलाड़ी, खेलेनेवाला।
कृतघ्न-(सं. वि.) पहिले किए हुए उपकार को मूल जानेवाला; -ता-(स्त्री.) उपकार मूलने की अवस्था।
कृतघ्नी-(हिं. वि.) देखें 'कृतघ्न'।
कृतज्ञ-(सं. वि.) किये हुये उपकार को माननेवाला; -ता-(स्त्री.) नेकी या उपकार मानना।
कृतदंड-(सं. पुं.) यमराज।
कृतनिश्चय-(सं. वि.) दृढ़संकल्प किया हुआ।
कृतपूर्व-(सं. पुं.) कृतयुग, सत्ययुग।
कृतपुण्य-(सं. वि.) पुण्य-कार्य करनेवाला।
कृतपूर्व-(सं. वि.) पहिले से किया हुआ।
कृतबुद्धि-(सं. वि.) बुद्धि स्थिर किया हुआ।
कृतयुग-(सं. पुं.) सत्ययुग।
कृतविद्या-(सं. वि.) पण्डित, ज्ञानी, जिसने विद्या पढ़ी हो।
कृतयेन-(सं. वि.) अलङ्कृत, सजा हुआ।
कृतांक-(सं. वि.) चिह्नित, चिह्न या निशान किया हुआ।
कृताञ्जलि-(सं. स्त्री.) श्रद्धाञ्जलि; (वि.) हाथ जोड़े हुए।
कृतांत-(सं. वि.) समाप्ति तारक; (पुं.) समाप्ति करने वाले समस्त ज्ञान, निदान, मनु, वाप, कवि, चरनी भक्षण, सो रो मन्त्र, देवता।

कृतात्यय(सं.पुं.) सांख्य दर्शन के अनुसार भोग द्वारा कर्म का नाश।
कृताय-(सं.पुं.) पक्वान्न, मिठाई आदि।
कृतापकार-(सं.वि.)अपकार करनेवाला।
कृतापराध-(सं. वि.) दोषी, अपराधी।
कृतार्थ-(सं. वि.) कृतकार्य, जिनका कार्य सिद्ध हो चुका हो, संतुष्ट, दक्ष, कुशल, मूक्त; -ता-(स्त्री.) सफलता।
कृतावधान-(सं. वि.) सावधान, चतुर।
कृतावधि-(सं. वि.) सीमावद्ध, नियत।
कृति-(सं. स्त्री.) क्रिया, कार्य, करनी, करतूत, काम, यत्न, क्षति, हिंसा, मारकाट, माया, अनुष्टुप् के समान एक छन्द, बीस की संख्या, गणित में बर्ग संख्या, विष्णु।
कृतिकर-(सं.पुं.)बीस हाथोंवाला, रावण।
कृती-(सं. वि.) शिक्षित, पुण्यवान्, भला काम करनेवाला, कुशल, प्रवीण, दक्ष।
कृत्ति-(सं.स्त्री.)मृगचर्म, मूजपत्र, भोजपत्र।
कृत्तिका-(सं.स्त्री.)तीसरा नक्षत्र, चन्द्रमा की पत्नी, गाड़ी, मृगचर्म, खाल, भोजपत्र।
कृत्तिवास-(सं. पुं.) शिव, महादेव।
कृत्य-(सं. वि.) किया जानेवाला, कर्त्तव्य, वेदविहित आवश्यक (कर्म), धूम (उत्क्रोच) देकर बस में किया जानेवाला; (पुं.)जाड़ू-टोना के देवता, कार्य।
कृत्यक-(सं. पुं.) हानि पहुँचानेवाला।
कृत्यका-(सं. स्त्री.) डाइन, चुड़ैल।
कृत्या-(सं. स्त्री.) अनिचारादि कार्य, जाड़ू-टोना, अनिचार के निमित्त आराधित देवी।
कृत्रिम-(सं.वि.) बनावटी, अस्थाभाविक, कार्यजात, काम से निकाला हुआ।
कृत्न-(सं. वि.) सम्पूर्ण, सब।
कृदंत-(सं. पुं.) घातु में 'हृत्' प्रत्यय लगाकर बना हुआ शब्द।
कृप-(सं.पुं.) भारद्वाज ऋषि के पुत्र का नाम, कृपाचार्य।
कृपण-(सं. वि.) कमून, सूत, अमता, न देनेवाला, धूर्त।
कृपणता-(सं. स्त्री.) कांजूसी, धूर्तता।
कृपणार्द्ध-(हिं. स्त्री.) कृपणता।
कृपया-(सं. अव्य.) कृपापूर्वक।
कृपा-(सं. स्त्री.) दया, अनुग्रह, क्षमा।
कृपाकर-(सं. वि.) दयानु।
कृपान-(सं. पुं.) मनुष्य, सत्यवाच, इन्द्र मून का पुत्र मंद।
कृपाशिला-(सं. स्त्री.) लुरी, बेंजी, चारु, मटारी।
कृपानिधि-(सं. पुं.) दयावान्।

कृपापात्र-(सं.पुं.)दयामाजन, जिन व्यक्ति पर दया की जावे, दया किये जाने योग्य।
कृपायतन-(सं. पुं.) कृपानिधि।
कृपाल-(हिं. वि.) देखें 'कृपाल'।
कृपालु-(सं.वि.)दयालु, कृपा करनेवाला।
कृपालुता-(सं. स्त्री.) दयालुता।
कृपावान्-(सं. वि.) दया करनेवाला।
कृपासिधु-(सं.पुं.)दयामाजन, कृपानिधि।
कृमि-(सं.पुं.)कीट, कीड़ा, उड़नेवाला कीट चींटी, लहू, मकड़ा, कृमि रोग।
कृमिका-(सं. स्त्री.) मृगचर्मों, राई।
कृमिघ्न-(सं. पुं.) वायुधियंग, प्याज, निलावाँ, नीम।
कृमिज-(सं. वि.) कीड़े में उद्यत होनेवाला; (पुं.) लहू, अमृत काण्ड।
कृमिजा-(सं.स्त्री.)लहू, देगम, हिरमिजी, अगर।
कृमिफल-(सं. पुं.) मूलर का फल।
कृमिभोजन-(सं.पुं.)एक नरत का नाम।
कृमिरोग-(सं. पुं.) पेट में कृमि पड़ने का रोग।
कृमीलक-(सं. पुं.) जंगली मूंग।
कृश-(सं. वि.) दुर्बल, धीर, दुम्का पतला, धीमा, दच्छि, भौड़ा।
कृशता-(सं. स्त्री.) धीरता, दुर्बलता, दुबलापन, अल्पता, कमी।
कृशन-(सं. पुं.) सुवर्ण, मोटा; (वि.) सुवर्ण-निमित्त।
कृशर-(सं.पुं.) तिल-चाकल की गिनती, केसर।
कृशरा-(सं. स्त्री.) गिनती।
कृशांग-(सं. वि.) दुबला।
कृशांगी-(सं.स्त्री.) दुर्बल-स्वभाव की स्त्री।
कृशाक्ष-(सं. पुं.) नकली।
कृशानु-(सं. पुं.) अग्नि, आग।
कृशित-(सं. वि.) दुर्बल, दुबलापन का।
कृशोदरी-(सं.स्त्री.)पत्नी के समान स्त्री।
कृशक-(सं. पुं.) गिरगिट, मीठ, हृत् का फल।
कृशि-(सं. स्त्री.) रोना, विषमता, रोना-कर्म, रोनासंगी का नाम।
कृशोदर-(सं. पुं.) गिरगिट।
कृष्ट-(सं. वि.) क्षीण, मोटा, सूत, मीना गुन।
कृष्टिमा-(सं. पुं.) क्षीण-स्वभाव, मीना गुन।
कृष्ण-(सं. वि.) काला, नीला, काला; (पुं.) भयानक, भयानक, भयानक के पुत्र, वसुदेव, अर्जुन, भीष्म, धर्मराज, कृष्ण, प्रद्योत, शिखर, भयानक

वृक्ष, काला जीरा, राई, महीने का काला पाख, अशुभ काल, एक वेदोक्त असुर जिसको इन्द्र ने मारा था, एक ऋषि का नाम, अथर्ववेद का एक उपनिषद्, वेदव्यास, कलियुग, चन्द्रमा का कलक, छप्पय छन्द का एक भेद ।
 कृष्णक- (सं.पुं.) काले हरित का चमड़ा, काली सरसा ।
 कृष्णकाय- (सं.पुं.) भैंसा; (वि.) काले शरीर का ।
 कृष्णगति- (सं.पुं.) अग्नि ।
 कृष्णग्रीव- (सं.पुं.) नीलकण्ठ, महादेव ।
 कृष्णचन्द्र- (सं.पुं.) श्रीकृष्ण ।
 कृष्णजिह्व- (सं.पुं.) काली जीभ का अशुभ घोड़ा ।
 कृष्णद्वैपायन- (सं.पुं.) पराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास ।
 कृष्णपक्ष- (सं.पुं.) चन्द्रक्षय का पक्ष, अँधेरा पाख, प्रतिपदा से अमावस्या तक का काल ।
 कृष्णपिपला- (सं. स्त्री.) दुर्गा ।
 कृष्णभुजंग- (सं.पुं.) काला साँप, करंत ।
 कृष्णमणि- (सं.पुं.) नीलम ।
 कृष्णसार- (सं.पुं.) यूहर, सँहुड़, काला हरिन ।
 कृष्णस्कंद- (सं.पुं.) तमाल वृक्ष, तमाखू का पेड़ ।
 कृष्णा- (सं. स्त्री.) द्रौपदी, किशमिश, काला जीरा, कुटकी, राई, पीपल, दक्षिण देश की एक नदी, परवर, दूध, कस्तूरी, अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक, काली तुलसी ।
 कृष्णाभिसारिका- (सं. स्त्री.) एक नायिका जो अँधेरी रात में अपने प्रियतम के पास जाती है ।
 कृष्णाभ्र- (सं.पुं.) काला अवरख, काला बादल ।
 कृष्णायस- (सं.पुं.) इस्पात, पक्का लोहा ।
 कृष्णावास- (सं.पुं.) द्वारकापुरी ।
 कृष्णाष्टमी- (सं. स्त्री.) भादों वदी अष्टमी जिस दिन श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था ।
 कृष्णिमा- (सं. स्त्री.) कृष्णत्व, कालापन ।
 कृष्य- (सं. वि.) जोतने योग्य भूमि ।
 कृष्ण- (हि. स्त्री.) चिड़ियों का दुःख-मूचक शब्द, झगड़े की बोली ।
 केंचुल- (हि. स्त्री.) साँप की अपने आप गिर जानेवाली खाल ।
 केंचुली- (हि. स्त्री.) देखें 'केंचुल' ।
 केंचुआ- (हि. पुं.) वर्षा ऋतु का एक गोड़ा, पेट में पड़ जानेवाला कीड़ा

जो केंचुआ के आकार का होता है ।
 केंत- (हि. पुं.) मोटी वेत ।
 केंद्र- (सं. पुं.) वृत्त का मध्याविट्ट, नाभि, मध्यवर्ती स्थान, मुख्य पीठ या स्थल ।
 केंद्रग, केंद्रगामी- (सं. वि.) केंद्र की ओर जानेवाला ।
 केंद्रस्थ- (सं. वि.) केंद्र या मध्य में स्थित ।
 केंद्रस्थान- (सं. पुं.) मुख्य स्थान ।
 केउआ- (हि. पुं.) घुड़याँ, चोकन्दर ।
 केउटा- (हि. पुं.) एक प्रकार का विपैला सर्प ।
 केकड़ा- (हि. पुं.) कर्कट, पानी में रहनेवाला आठ टाँगों और दो पंजोंवाला एक जंतु ।
 केकय- (सं. पुं.) एक प्राचीन जनपद का नाम जो काश्मीर देश के अन्तर्गत था, इस देश में रहनेवाला, दशरथ के ससुर का नाम ।
 केकयी- (सं. स्त्री.) दशरथ की मझली पत्नी, भरत की माता ।
 केकल- (सं. पुं.) नर्तक, नाचनेवाला ।
 केका- (सं. स्त्री.) मोर की बोली ।
 केकी- (सं. पुं.) मयूर, मोर ।
 केचित्- (सं. अव्य.) कोई-कोई ।
 केड़वारी- (हि. स्त्री.) शाक, फल आदि वोन का वगीचा, नये बोये हुए वृक्षों का वगीचा ।
 केड़ा- (हि. पुं.) कोंपल, कल्ला, नया पौधा, गट्टा, नवयुवक ।
 केत- (सं. पुं.) घर, स्थान, वस्ती, ध्वज, पताका, संकल्प, प्रतिज्ञा ।
 केतक- (सं. पुं.) केवड़ा; (हि. वि.) कितने, बहुत, बहुत-कुछ ।
 केतकी- (सं. स्त्री.) एक छोटा वृक्ष जिसमें तलवार के आकार के पत्तों के पुट में एक सुगंधित फूल होता है, केवड़ा ।
 केतन- (सं. पुं.) निमन्त्रण, बुलावा, चिह्न, ध्वजा, घर, स्थान ।
 केता- (हि. वि.) कितना ।
 केतिक- (हि. वि.) कितना ।
 केतु- (सं. पुं.) पुराणानुसार राहु राक्षस का वड़, प्रज्ञा, चमक, पताका, चिह्न, पीड़ा, उत्पात, पुच्छल तारा, नवग्रहों में से एक ।
 केतुमती- (सं. स्त्री.) सुमाली राक्षस की स्त्री जो रावण की नानी थी, एक अर्ध-समवृत्त ।
 केतुमान्- (सं. वि.) चिह्नयुक्त, प्रज्ञायुक्त, बुद्धिमान्, तेजस्वी, ध्वजायुक्त; (पुं.) ध्वन्तरि का पुत्र ।

केतुरत्न- (सं.पुं.) वैदूर्यमणि, लहसुनिया ।
 केतुवृक्ष- (सं. पुं.) मेरु-पर्वत के चारों ओर के पर्वतों पर कदम्ब, जामुन, पीपल और बरगद के वृक्ष ।
 केदार- (सं. पुं.) हिमालय के अन्तर्गत एक पर्वत, पानी रोकने के लिये चारों ओर मेड़ बना हुआ खेत, उपजाऊ भूमि, आलवाल, थाला, एक राग विशेष ।
 केदारनाथ- (सं. पुं.) हिमालय पर्वत के अन्तर्गत एक पर्वत की चोटी जिस पर इस नाम का शिवलिंग है ।
 केदारा- (हि. पुं.) एक राग ।
 केदारी- (सं. स्त्री.) एक रागिणी का नाम ।
 केन- (सं. पुं.) सामवेद का एक उपनिषद् जिसका पहिला मन्त्र 'केन' शब्द से आरम्भ होता है ।
 केना- (हि. पुं.) शाक-भाजी मोल लेने के लिये दिया हुआ थोड़ा-सा अन्न, एक प्रकार की घास जिसकी पर्काड़ी बनती है ।
 केयूर- (सं. पुं.) बाँह में पहिने का आभूषण, भुजबन्ध, अंगद ।
 केयूरी- (सं. वि.) केयूर या विजायठ पहिने हुए ।
 केर- (हि. प्रत्य.) संबंधसूचक विभक्ति या प्रत्यय, का ।
 केरल- (सं. पुं.) दक्षिण भारत का एक देश, मलावार, इस देश का निवासी, एक ज्योतिष-शास्त्र जिसको दिव्यचूड़ामणि ने लिखा था ।
 केरा- (हि. पुं.) देखें 'केला' ।
 केराना- (हि. क्रि. स.) अन्न के छोटे-बड़े दाने सूप से अलगाना; (पुं.) हलदी, मिर्चा, घनिया आदि मसाला ।
 केरानी- (हि. पुं.) लिपिक, युरेशियन, दोगला युरोपियन, किरानी ।
 केराया- (हि. पुं.) देखें 'किराया' ।
 केराव- (हि. पुं.) मटर ।
 केरि- (हि. प्रत्य., स्त्री.) देखें 'केरी', 'केलि' ।
 केरी- (हि. प्रत्य.) 'केर' विभक्ति का स्त्री-लिंग रूप, आम का छोटा कच्चा फल ।
 केरक- (सं. पुं.) नर्तक, नाचनेवाला ।
 केला- (हि. पुं.) कदली वृक्ष या उसका फल ।
 केलास- (सं. पुं.) स्फटिक; (हि. पुं.) देखें 'केलास' ।
 केलि- (सं. स्त्री.) परिहास, हँसी, ठट्ठा, फ्रीड़ा, मंथन; स्त्री-प्रसंग, पृथ्वी ।
 केलिकला- (सं. स्त्री.) रतिक्रीड़ा, सरस्वती की वीणा ।
 केली- (सं. स्त्री.) देखें 'केलि' ।
 केवट- (हि. पुं.) नाव चलानेवालों की

एक जाति, मल्लाह ।
 केवटी दाल—(हिं. स्त्री.) दो या अधिक प्रकार की एक में मिली हुई दाल ।
 केवटी मोथा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का मुगन्वित मोथा ।
 केवड़े—(हिं. वि.) केवड़े के रंग का, हलके पीले-हरे रंग का ।
 केवड़ा—(हिं. पुं.) श्वेत केतकी का पौधा, इस पौधे का फूल, केवड़ा जल ।
 केवल—(सं. वि.) एकमात्र, अकेला, गृह, श्रेष्ठ, उत्तम, उत्कृष्ट; (पुं.) भ्रान्तिशून्य ज्ञान; (अव्य.) सिर्फ, मात्र; —ज्ञान—(पुं.) इन्द्रियों की सहायता के बिना केवल आत्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान; —ज्ञानी—(पुं.) तत्वज्ञानी; —व्यतिरेकी—(पुं.) केवल व्यतिरेक द्वारा ज्ञान अर्थात् प्रत्यक्ष कारण देखकर अनुमान; जैसे—जहाँ 'उज्ज्वलताभाव है वहाँ वह्नि के अभाव' का अनुमान ।
 केवलात्मा—(सं. पुं.) पुण्य-पाप से रहित ईश्वर; (वि.) शुद्ध स्वभाववाला ।
 केवलान्वयी—(सं. पुं.) वह अनुमान जिसका विपक्ष नहीं होता तथा जो केवल अन्वय-व्याप्ति द्वारा ही जाना जाता है; ऐसा अनुमान ।
 केवली—(सं. स्त्री.) ज्ञान, समझ; (पुं.) केवल-ज्ञानी पुरुष ।
 केवांच—(हिं. स्त्री.) देखें 'कींच' ।
 केवा—(सं. पुं.) कमल की तरह का एक पुष्प, केतकी, केवड़ा, वहाना ।
 केवाड़—(हिं. पुं.) देखें 'किवाड़' ।
 केडा—(सं. पुं.) विष्णु, सूर्य तथा अग्नि की किरण, परब्रह्म की शक्ति, कुन्तल, सिर का बाल, वन्य, बान्धव, छटा, रस्मि ।
 केडाफलाप—(सं. पुं.) बालों का गुच्छा ।
 केडाफार—(सं. पुं.) बालों को संवारनेवाला ।
 केडाप्रह—(सं. पुं.) बलपूर्वक धोंटा सींचना ।
 केडापाद—(सं. पुं.) बालों की लट ।
 केडाचंप—(सं. पुं.) नाच में हाथों की एक चाल ।
 केडामार्जन—(सं. पुं.) बालों को घोंसा ।
 केडामार्जनी—(सं. स्त्री.) कंधी ।
 केडार—(सं. पुं.) देखें 'किगर' ।
 केडारजन—(सं. पुं.) भूतनाथ, भंगरैया ।
 केडाराज—(सं. पुं.) भूतनाथ, भंगरैया, भूतनाथ पक्षी ।
 केडारी—(सं. पुं.) मित्र, पोसा, नाम-केसर, एवं मलधर पक्षी, किशोर मीठ, एक प्रकार का बरकर ।
 केडाह—(सं. पुं.) परमात्मा, विष्णु, नाम-

केसर, काँवा, नदी में बहाया हुआ मुर्दा;
 —प्रिया—(सं. स्त्री.) राधिका, गोरौचन ।
 केडाविन्यास—(सं. पुं.) बालों को संवारना ।
 केडाहन्त्री—(सं. स्त्री.) शमी वृक्ष ।
 केडात—(सं. पुं.) केड का अग्र भाग, दाढ़ी, मूड़न का एक संस्कार, मूंडन ।
 केशि—(सं. पुं.) एक दानव जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था ।
 केशिका—(सं. स्त्री.) नतावर ।
 केशिनी—(सं. स्त्री.) बड़े-बड़े बालोंवाली स्त्री, दमयन्ती की दूती, रावण की माता, एक अप्सरा, पार्वती की एक सहेली का नाम, बन्ध्या, वीज ।
 केशी—(सं. पुं.) एक गृहपति का नाम, एक दैत्य जिसको कृष्ण ने मारा था, घोड़ा, सिंह; (वि.) घने बालवाला, बालदार, किरणयुक्त ।
 केसर—(सं. पुं.) फूलों के बीच के महीन तन्तु, कुमकुम, घोड़े या शेर की गरदन पर के बाल, नागकेसर, बकुल वृक्ष, मौलसिरी, सोना, कसीस, हीन ।
 केसरिया—(हिं. वि.) केसर के रंग का, पीला, जर्द, केसर डाला हुआ, केसर जैसी सुगंधवाला ।
 केसरी—(सं. पुं.) सिंह, घोड़ा, नागकेसर, एक प्रकार का चन्द्र, अनुमान के पिता; (वि.) केसरिया; —मुत, सुवन—(पुं.) हनुमान ।
 केसारी—(हिं. स्त्री.) मटर की जाति का एक अन्न, लतरी, येनारी ।
 केसू—(हिं. पुं.) देखें 'केसू' ।
 केहरी—(हिं. पुं.) केसरी, शेर, घोड़ा ।
 केहा—(हिं. पुं.) मयूर, मोर, एक छोटा जंगली पक्षी ।
 केहि—(हिं. वि., सर्व.) किरा, किनको ।
 केहू—(हिं. अव्य.) किसी प्रकार ।
 केहू—(हिं. नयं.) कोई ।
 केचा—(हिं. वि.) देखी आंगवाला, वेगा, ऐंचा-ताना; (पुं.) बड़ी केची ।
 केची—(हिं. स्त्री.) मिलाई के बगड़े, बाल आदि काटने का संयंत्र, कान्ची, गान्धारी चक्राजन में दोनों दीवानों पर गणान्ति केची के नाम से जानतानी मन्त्रियां ।
 केडल—(हिं. पुं.) कंगड़ी मीठार ।
 केडा—(हिं. पुं.) किरा के अर्थ में केडा के नाम से जानतानी मन्त्रियां ।
 केडा—(हिं. पुं.) किरा के अर्थ में केडा के नाम से जानतानी मन्त्रियां ।
 केडा—(हिं. पुं.) किरा के अर्थ में केडा के नाम से जानतानी मन्त्रियां ।

(प्रत्य.) का; (अ. स्त्री.) वमन, उलटी ।
 कैकय—(सं. पुं.) कैकय नरेश ।
 कैकयी—(हिं. स्त्री.) देखें 'कैकयी' ।
 कैकस—(सं. पुं.) राक्षस, दानव ।
 कैकसी—(सं. स्त्री.) रावण की माता का नाम ।
 कैकयी—(सं. स्त्री.) कैकयराज की पत्नी, दशरथ की मन्त्री पत्नी, भरत की माता ।
 कैटन—(सं. पुं.) एक दैत्य जो विष्णु के द्वारा मारा गया था ।
 कैटमारि—(सं. पुं.) विष्णु ।
 कैटभी—(सं. स्त्री.) महाकाली, योग-निद्रा ।
 कैतव—(सं. पुं.) घटना, छल, धोखा, जुआ, बह्यमणि, लहनुनिया, कुमुद, फोक; (वि.) जुबारी, शठ, दुष्ट ।
 कैतवापह्नति—(सं. स्त्री.) एक भव्या-लंकार जिनमें असली बात मुन्दे पद्यों में नहीं परन्तु व्याज (बहाने) से छिपाई जाती है ।
 कैथ, कैथा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का मूछ जिनमें गोल मूठे फल लगते हैं, कपित्थ ।
 कैथिन—(हिं. स्त्री.) कायस्थ जाति की स्त्री ।
 कैथी—(हिं. स्त्री.) एक प्राचीन लिपि जो नागरी से बहुत मिलती-जुलती है । (इसमें अक्षरों पर नाया नहीं भरा जाता । विहार प्रांत में इसका व्यवहार होता है ।)
 कैद—(अ. स्त्री.) कारागार, कारागार, बंधन, धरने, प्रतिबंध; —सतहाई—(स्त्री.) कैदी की अंगुली बंद रखने का कठोर बंध ।
 कैदी—(अ. पुं.) कारागार का बंद की गजा काठनेवाला बंदी ।
 कैथी—(हिं. अव्य.) या, था, अमत्त ।
 कैथियत—(पा. स्त्री.) हाथ, मसाधार, विवरण, कथा-नामकी; (मसा.)—सत्य धरना-मन्त्रारी कथे-मन्त्री अर्थ में उमली मन्त्री पर असाय मन्त्रिणा ।
 कैथा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का कर्म का मूछ जिसकी मन्त्री मन्त्रेरी कर्ती होती है ।
 कैथिवन्याय—(सं. पुं.) एक लिपि जिसका प्रयोग काठनेवालों के द्वारा किया जाता है किन्तु बहुत कम प्रयोग में आता है ।
 कैथी—(हिं. पुं.) किरा के अर्थ में केडा के नाम से जानतानी मन्त्रियां ।
 कैथी—(हिं. पुं.) किरा के अर्थ में केडा के नाम से जानतानी मन्त्रियां ।
 कैथी—(हिं. पुं.) किरा के अर्थ में केडा के नाम से जानतानी मन्त्रियां ।
 कैथी—(हिं. पुं.) किरा के अर्थ में केडा के नाम से जानतानी मन्त्रियां ।

कैरव-(सं.पुं.) शयु, जुआरी, श्वेत कमल ।
 कैरा-(हि.पुं.) भूरा रंग, वेल जिसका
 चमड़ा लाल और बाल सफेद होता है;
 (वि.) भूरी आँखवाला, कंजा ।
 कैरी-(हि.वि.स्त्री.) भूरे रंग की ।
 कलास-(सं.पुं.) हिमालय की एक
 चोटी का नाम, महादेव और यक्षाधिप
 कुबेर का वासस्थान, शिवलोक;
 -नाय-(पुं.) शिव, कुबेर; -पति-(पुं.)
 महादेव; -वास-(पुं.) मृत्यु ।
 कैलासी-(हि.वि.) कैलास पर रहनेवाला ।
 कैवर्त-(सं.पुं.) केवट की जाति, मल्लाह ।
 कैवर्तमुस्तक-(सं.पुं.) पानी में उत्पन्न
 होनेवाला मोया, केवटी मोथा ।
 कैवल्य-(सं.पुं.) मुक्ति, विशप निर्वाण,
 छुटकारा, कृष्ण यजुर्वेद के अन्तर्गत
 एक उपनिषद्, अद्वितीय स्वरूप, एकता,
 शुद्धता ।
 कैशिकी-(सं.स्त्री.) छेदने योग्य तल-
 वार की धार, नाटक की एक वृत्ति
 जिसमें नाचने, गाने, वजाने और भोग-
 विलास की बातें होती हैं ।
 कैसा-(हि.वि.) किस तरह का ।
 कैसे-(हि.अव्य.) किस प्रकार से, किस
 कारण से, क्यों, किस लिये ।
 कोई-(हि.स्त्री.) देखें 'कुई' ।
 कोंकण-(सं.पुं.) दक्षिण भारत का एक
 प्रदेश, यहाँ का निवासी ।
 कोंचना-(हि.क्रि.स.) छेदना, गड़ाना,
 चुभाना ।
 कोंचा-(हि.पुं.) कोंचपक्षी, वहेलियों
 की लंबी लगी जिसके सिर पर लासा
 लगाकर वे चिड़ियों को पकड़ते हैं ।
 कोंछ-(हि.पुं.) स्त्रियों की ओढ़नी
 या आँचल का कोना ।
 कोंछना-(हि.क्रि.स.) साड़ी के अगले
 भाग को चुनना ।
 कोंछियाना-(हि.क्रि.स.) कोंछ में कोई
 वस्तु रखकर कमर में खोंसना, साड़ी
 के उस भाग को चुनना जो पेट पर
 खोंसा जाता है ।
 कोंड़ा-(हि.पुं.) कुण्डल, घातु का किसी
 वस्तु को अटकाने का छल्ला या कड़ा ।
 कोंढ़ी-(हि.स्त्री.) छोटा कोंढ़ा, कली ।
 कोंयना-(हि.क्रि.अ.) कराहना, कूयना ।
 कोंपना-(हि.क्रि.अ.) कोंपल लगना ।
 कोंपर-(हि.पुं.) टाल का पका हुआ
 आम, वाँस का कोमल अंकुर ।
 कोंपल-(सं.स्त्री.) अंकुर, वृक्ष की नई
 कोमल पत्ती ।

कोंवर-(हि.वि.) नरम, मुलायम, मृदु ।
 कोंहड़ा-(हि.पुं.) देखें 'कुम्हड़ा' ।
 कोंहड़ौरी-(हि.स्त्री.) पेटे को मिलाकर
 उड़द की बनी हुई बरी ।
 को-(हि.सर्व.) कौन; (विभ.) कर्म तथा
 सम्प्रदान कारक की विभक्ति ।
 कोआ-(हि.पुं.) कोष, रेशम के कीड़े
 का कोश, टसर का कीड़ा, महुए का पका
 हुआ फल, घुने हुए ऊन की प्यूनी,
 कटहल के पके हुए फल का बीजकोष,
 आँख का डेला ।
 कोइड़ार-(हि.पुं.) वह खेत जिसमें
 साग, तरकारियाँ लगी हों ।
 कोइना-(हि.पुं.) महुए के फल की गुठली ।
 कोइरी-(हि.पुं.) कृषिजीवी एक जाति,
 काछी, कुर्मी ।
 कोइला-(हि.पुं.) देखें 'कोयला' ।
 कोइली-(हि.स्त्री.) कच्चा आम, आम
 की गुठली, कोयल ।
 कोई-(हि.सर्व.) अज्ञात व्यक्ति विशेष,
 अनजानी वस्तु, चाहे जो एक, एक भी;
 -न कोई-(सर्व.) एक न एक; -भी-
 (सर्व.) कोई ।
 कोउ, कोउक, कोऊ-(हि.सर्व.) कोई,
 कुछ लोग ।
 कोक-(सं.पुं.) चक्रवाक, चकवा, मेढक,
 विष्णु, भेड़िया, छिपकली, कमल ।
 कोकई-(हि.वि.पुं.) गुलाबी, नीला रंग,
 कौड़ियाला ।
 कोककला-(सं.स्त्री.) रतिविद्या, संभोग-
 शास्त्र ।
 कोकदेव-(सं.पुं.) रतिरहस्य या रति-
 शास्त्र के एक पण्डित ।
 कोकनद-(सं.पुं.) लाल पद्म, लाल कोंई ।
 कोकना-(हि.क्रि.स.) कच्चा करना,
 वखिया करने के लिये सूई से दूर-दूर
 पर तागा डालना, लंगर डालना ।
 कोकनी-(हि.पुं.) एक प्रकार का तीतर,
 एक प्रकार का रंग; (वि.) छोटा,
 कम मूल्य का, घटिया ।
 कोकबंधु-(सं.पुं.) सूय ।
 कोकवा-(हि.पुं.) एक प्रकार का वाँस ।
 कोकशास्त्र-(सं.पुं.) कोकदेव नामक
 पण्डित का बनाया हुआ रतिशास्त्र ।
 कोका-(हि.पुं.) कवूतर; (स्त्री.)
 कुमुदिनी; (पुं.) दक्षिण अमेरिका में
 उपजनेवाला एक वृक्ष और उसकी
 पत्तियाँ जो चाय के सदृश पेय के रूप में
 काम आती हैं ।
 कोकाबली-(हि.स्त्री.) नीली कुमुदिनी ।

(इसके बीज का आटा व्रत में खाया
 जाता है ।)
 कोकाह-(सं.पुं.) श्वेत घोड़ा ।
 कोकिल-(सं.पुं.) पिक, कोयल, परभूत,
 जलता हुआ अंगारा, एक विपला
 कीड़ा, बेर का फल, छप्पय छद्म का
 एक भेद ।
 कोकिला-(सं.स्त्री.) मादा कोयल,
 बहुत मधुर गायिका ।
 कोकिलाक्ष-(सं.पुं.) तालमखाना ।
 कोकलासन-(सं.पुं.) हठयोग का एक
 आसन ।
 कोकीन, कोकेन-(हि.पुं.) 'कोका नामक
 वृक्ष की पत्तियों से बना एक बहुत
 उत्तेजक और मादक रसायन या चूर्ण
 जो पान में खाया जाता, अत्यधिक
 विपला होता और अंग पर लगाने से
 उतना स्थान सुन्न कर देता है ।
 कोको-(हि.स्त्री.) मादा कौवा; (पुं.)
 कौवे का शब्द; (पुं.) कोका नामक
 एक पेय ।
 कोख-(हि.स्त्री.) पेट, उदर, पेट के
 दोनों ओर का स्थान, गर्भाशय;
 (मुहा.)-उजड़ना-गर्भपात होना या
 बच्चा जनमकर मर जाना; -बंद होना-
 सन्तान का न होना, वाँझ होना;
 -जली-(स्त्री.) वह स्त्री जिसकी संतान
 मर गई या मर जाती हो ।
 कोगी-(हि.पुं.) लोमड़ी की तरह का
 एक पशु ।
 कोचकी-(हि.पुं.) लाली लिये भूरा
 रंग, मकोइया रंग ।
 कोचना-(हि.क्रि.स.) देखें 'कोंचना',
 चुभाना, गड़ाना ।
 कोचनी-(हि.स्त्री.) चुभाने का कोई
 नुकीला साधन, हाँकने की छड़ी ।
 कोचवान-(हि.पुं.) बगी हाँकनेवाला ।
 कोचा-(हि.पुं.) तलवार इत्यादि का
 गड़ाना, चुभाव, ताना ।
 कोचिला-(हि.पुं.) देख 'कुचिला' ।
 कोची-(हि.पुं.) एक प्रकार का जंगली
 बबूल ।
 कोजागर-(सं.पुं.) आश्विन मास की
 पूर्णिमा, शरदपूर्णिमा ।
 कोट-(सं.पुं.) दुर्ग, गढ़, प्राचीर, राज-
 महल; (हि.वि.पुं.) कोटि, अनेक, यूय;
 (अं.पुं.) अंग्रेजी ढंग का एक पहनावा;
 -पतलून-(अं.पुं.) अंग्रेजों का या साहवी
 पहनावा; -पाल-(सं.पुं.) दुर्ग को
 रक्षा करनेवाला ।

कोटर-(सं. पुं.) वृक्ष-गह्वर, पेड़ का खोलला भाग, दुर्ग की रक्षा के लिये इसके चारों ओर लगाया हुआ जंगल।
 कोटरी-(सं. स्त्री.) वस्त्र रहित नंगी स्त्री, चण्डी, दुर्गा।
 कोटि-(सं. स्त्री.) तलवार की धार, धनुष का अगला भाग, सौ लाख की संख्या, करोड़, वाद-विवाद का पूर्वपक्ष, श्रेणी, उत्तमता, ढेर, समूह, जत्या, राशि-चक्र का तीसरा भाग; (वि.) सौ लाख, करोड़।
 कोटिक-(सं. पुं.) वीरखहूटी नामक कीड़ा; (हिं. वि.) करोड़ों, अनगिनत, संख्या में बहुत अधिक।
 कोटिग्या-(सं. स्त्री.) ग्रहों की स्थिति-सूचक धनुष के आकार का क्षेत्र।
 कोटिशः-(सं. अव्य.) करोड़ों, अनेक प्रकार से।
 कोट्-(हिं. पुं.) देखें 'कुट्'।
 कोठरी-(हिं. स्त्री.) भीत से चारों ओर घिरा हुआ छोटा कमरा।
 कोठा-(हिं. पुं.) लंबी-चौड़ी कोठरी, बड़ा कमरा, भण्डारघर, अटारी, उदर, पेट, गर्माशय, पक्वाशय, घर; (मुहा.) -विगड़ना-अपच होना; -साफ होना-पेट साफ होना; फोटे पर बैठना-वैश्या-वृत्ति करना; -दार-(पुं.) कोठेवाला; कोठेवाली-(स्त्री.) शहर की वैश्या।
 कोठार-(हिं. पुं.) अन्न, धन आदि रखने का स्थान, भण्डारघर।
 कोठारी-(हिं. पुं.) भण्डारघर का प्रबंधकर्ता, भण्डारी।
 कोठिला-(हिं. पुं.) देखें 'कुठिला'।
 कोठी-(हिं. स्त्री.) हवेली, पक्का बड़ा घर, बंगला, कारवार का स्थान, थोक विप्री की दुकान, कुठिला, कुएँ की दीवार या पुल के तारों पर की ईंट या पत्थर की जोड़ी जो पानी के भीतर चप्टी जाती है, वांस का मण्डलाकार समूह; -वाल-(हिं. पुं.) महाजन, साहूकार, बड़ा व्यापारी; -वाली-(स्त्री.) महाजनी, साहूकारी, मुद्रिया विपि; (मुहा.) -चलाना-महाजनी का सागर करना।
 कोठुत्त-(हिं. वि. न.) भीत की मिट्टी को गाँधी मोड़कर उभटना, मोड़ना।
 कोठु-(हिं. पुं.) गाँडा, पाण्डु, पशुओं की सामने का बड़ा जिमने बनना या बड़ा हुआ बंधा होना है, उत्तेजन, धोए, वे मादकी, मन्त्राणुष की एक दुक्ति।

कोड़ाई-(हिं. स्त्री.) कोड़ने का काम, कोड़ने की मजदूरी।
 कोड़ार-(हिं. पुं.) कोलू की लकड़ी में जड़ा हुआ लोहे का छल्ला।
 कोड़-(हिं. पुं.) कुष्ठ, एक प्रकार का रक्त तथा त्वचा संबंधी संक्रामक रोग; (मुहा.) -चूना-शरीर के अंग का गल-गल कर गिरना।
 कोड़ा-(हिं. पुं.) गोबर इकट्ठा करने के लिये बाड़ा जहाँ पशु बाँधे जाते हैं।
 कोड़िया-(हिं. पुं.) तमाकू के पत्तों का एक रोग।
 कोड़ी-(हिं. पुं.) कुष्ठ रोगग्रस्त व्यक्ति।
 कोण-(सं. पुं.) नौक, कोना, दिशाओं के मध्य की दिशा; यथा-अग्नि, नक्षत्र, ईशान और वायव्य, घर का एक भाग, डंडा, सोंटा, दो सीधी रेखाओं के परस्पर मिलने के बीच का स्थान।
 कोण-कुण-(सं. पुं.) मत्कुण, खटमल।
 कोतल-(तु. पुं.) जुलूस आदि में सजा-सजाया बिना सवार का घोड़ा।
 कोतवाल-(हिं. पुं.) नगरपाल, नगर का बड़ा थानेदार, प्रबन्धकारक, पंचायत, समा इत्यादि का नियन्त्रण करनेवाला।
 कोतवाली-(हिं. स्त्री.) कोतवाल के रहने का स्थान, शहर का बड़ा याना, कोतवाल का पद।
 कोता-(हिं. वि.) कम, छोटा, तंग।
 कोताह-(फा. वि.) थोड़ा, अल्प, तंग।
 कोताही-(फा. स्त्री.) कमी, मुटि।
 कोयला-(हिं. पुं.) बँला, उदर, पेट।
 कोयली-(हिं. स्त्री.) लंबी बेली जिसमें रुपये-पैसे भरकर कमर में बाँध लेते हैं।
 कोदंड-(सं. पुं.) धनुष, कमान, झू, मोँह, धनु राशि।
 कोद-(हिं. स्त्री.) दिशा, ओर, कोना।
 कोदई-(हिं. पुं.) देखें 'कोदव'।
 कोदव-(हिं. पुं.) देखें 'कोदो'।
 कोदो-(हिं. पुं.) साँवा की तरह का एक अन्न, कदम; (मुहा.) -देकर पड़ना-अपूरी या अमूढ़ विद्या पढ़ना; छाती पर कोदो बलना-प्रत्यक्ष रूप से ऐसा काम करना जो दूसरे को बुरा लगे।
 कोदव-(सं. पुं.) देखें 'कोदो'।
 कोन-(हिं. पुं.) कोण, कोना; (मुग.) -सालना या सारना-बोले में पढ़ने गैर के कामों को पचना।
 कोनसिला-(हिं. पुं.) कोनिया की भाषण में तिरछी रूपों हुई मन्त्री।
 कोना-(हिं. पुं.) नाम, नोट, नौशीला,

किनारा, सूँट, एकांत स्थान, दो दीवारों के मिलने का स्थान; (मुहा.) -शांकिना-नय या लज्जा से मुँह सामने न करना; -दबना-होर दबना; कोने में बैठ रहना-कोने में छिपकर निराम्ना समय गवाना।
 कोना-अंतरा-(हिं. पुं.) घर का कोना और अंतरा, अंतरांग स्थान।
 कोनिया (यां)-(हिं. स्त्री.) लकड़ी या पत्थर की पटिया जो वस्तु रखने के लिये नीत के कोने पर बैठई जाती है, पटनी, छाजन में दीवारों के जोड़ के ऊपर नरेंठ से लगाकर बना हुआ त्रिकोना मंचान।
 कोप-(सं. पुं.) श्रांय, रोग, गुस्सा, शृंगार रस में नायिका का नायक के प्रति बनावटी श्रेय।
 कोपन-(सं. पुं.) कोपना, कुपित होना; (वि.) श्रेयो।
 कोपना-(हिं. क्रि. अ.) श्रांय करना, रोप करना।
 कोपनीय-(सं. वि.) जिस पर श्रेय दिया जावे, जिसे क्रुद्ध किया जा सके।
 कोपभवन-(सं. पुं.) वह कोठरी जिनमें श्रेय में आकर कोई मनुष्य बठना है।
 कोपर-(हिं. पुं.) टपका या टाल का पका आम।
 कोपल-(हिं. स्त्री.) पल्लव, नई पत्ती जो किसी पौधे में से निकलती है, कोंपल।
 कोपली-(हिं. वि.) बँगनी या लाल रंग का।
 कोपवती-(सं. स्त्री.) श्रांय करनेवाली स्त्री।
 कोपवान्-(सं. वि.) कोपयुक्त।
 कोपि-(सं. सर्व.) कोई भी।
 कोपित-(सं. वि.) कुपित, क्रुद्ध।
 कोपी-(सं. वि.) कोप करनेवाला, श्रेयो।
 कोपीन-(हिं. पुं.) देय 'कोपीन'।
 कोपता-(फा. पुं.) माँग का बयान।
 कोपी-(हिं. स्त्री.) गान्धी का फूल।
 कोनल-(सं. वि.) मूक, नरम, मुकुमार, मुन्दर, नवीर, मंगी में बारीक मोठी ध्वनि; -सा-(स्त्री.) मसुरा, मसुरा।
 कोमला-(न. स्त्री.) मिस्री, मसूर, अन्तार में पर अक्षर-मोदना जिसमें कोमल पद हो।
 कोय-(हिं. सर्व.) कोई।
 कोयर-(हिं. पुं.) मात-कापी, घर-कानी, घरवा की वि. रीति का एक नगर।
 कोयल-(हिं. स्त्री.) कोयल, कोयल की सुन्दर कोयलवाणी विपिका, पूरु शरीर और नीचे पंखरानी लता, पारस-लता।
 कोयका-(हिं. पुं.) लगी हुई लकड़ी का

वह भाग जो पूरी तरह से राख न हुआ हो और काला पड़ गया हो, कोयले के रंग का एक खनिज पदार्थ जो पत्थर का कोयला कहलाता है; (मुहा.) कोयले की दलाली में हाथ काला-वरे काम में बदनामी ही हाथ लगती है। कोया-(हि. पुं.) आँख का डेला, आँख का कोना, पके कटहल का गूदेदार बीजकोप जो खाया जाता है। कोरंगा-(हि. पुं.) एक प्रकार की दौरी या टोकरी। कोरंजा-(हि. पुं.) मजूरी में दिया जानेवाला अन्न। कोर-(हि. स्त्री.) प्रान्त, भाग, किनारा, कोना, वस्त्रादि का छोर, अनी, नोक, धार, श्रेणी, द्वेप, बुराई, वैमनस्य, पवित्र, कतार। कोरक-(सं. पुं.) फूल की कली, मुकुल, कमल की डंठी, मृगाल, काकोली, शीतल चीनी; (हि. पुं.) एक प्रकार का वेंत। कोरकसर-(हि. स्त्री.) न्यूनता, कमी-वैशी, काट-छाँट। कोरना-(हि. क्रि. स.) पत्थर या काष्ठ पर खुदाई करना। कोरनी-(हि. स्त्री.) पत्थर की खोदाई। कोरमा-(तु. पुं.) भुना हुआ मांस जिसमें शोरवा न हो। कोरहन-(हि. पुं.) एक प्रकार का धान। कोरहा-(हि. वि.) किनारदार, नोकिला। कोरा-(हि. वि.) व्यवहार में न लाया हुआ, चिह्नरहित, मूर्ख, अपढ़, निरक्षर, धनहीन, नया, अछूत, विना बुला हुआ, जिस पर कुछ लिखा न हो, सादा, रहित, केवल; -पन-(पुं.) नयापन, अछूतापन; -जवाब-(पुं.) स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार। कोरि-(हि. वि.) देखें 'कोटि'। कोरी-(हि. पुं.) हिन्दू धुनकर या जुलाहा। कोल-(सं. पुं.) शूकर, मूअर, वेड़ा, क्रोड़, गोद, शनि ग्रह, आलिंगन, बेर का फल, दो टंक (एक तोले) की तील, काली मिर्च, कुलथी, पुरुवंशीय एक राजा, प्राचीन दक्षिण भारत का कोल-राज्य; भारत की एक असम्य जंगली जाति। कोलरु-(सं. पुं.) अगरोट का वृक्ष, लिसोड़ा; (हि. पुं.) आरी चोरी करने की रेत। कोलना-(हि. क्रि. म.) छेदना, बीच में नाटकर पोछा करना। कोलमूल-(हि. पुं.) पिण्णलीमूल। कोया-(सं. स्त्री.) पिण्णली, पीपल,

गोरखमुंडी; (हि. पुं.) शृगाल, गीदड़। कोलाहल-(सं. पुं.) कलकल ध्वनि, हल्ला, चिल्लाहट। कोलियाना-(हि. क्रि. अ.) सँकरे मार्गसे जाना कोली-(हि. स्त्री.) आलिंगन; (पुं.) जुलाहा। कोल्हाड़-(हि. पुं.) वह स्थान जहाँ किसान ईख पेरते और गुड़ बनाते हैं। कोल्हुआ-(हि. पुं.) कुश्ती का एक पेंच। कोल्हू-(हि. पुं.) तेल या ऊख पेरने का यन्त्र; (मुहा.) -ना बैल-धीरज धरकर कठिन परिश्रम करनेवाला; -में डालकर पेरना-अति कष्ट देना। कोविद-(सं. पुं.) पण्डित, विद्वान्, वेद को जाननेवाला। कोविदार-(सं. पुं.) कचनार का वृक्ष। कोश-(सं. पुं.) अण्ड, अंडा, खान से निकला हुआ विशुद्ध सोना या चाँदी, फूल की बँधी हुई कली, तलवार की मियान, समूह, ढेर, आवरण, खोल, धौली, संचित धन, अण्डकोश, रेशम का कोया, कटहल का कोया, जातिकोप, जावित्री, पेशी, पुट्टा, अकारादि क्रम से लिखी हुई पुस्तक जिसमें शब्दों के अर्थ दिये हों, शब्दकोश। कोशकार-(सं. पुं.) तलवार की मियान बनानेवाला, शब्दकोप बनानेवाला, रेशम का कीड़ा। कोशपति, कोशपाल-(सं. पुं.) संचित धन का संरक्षक, कोपाध्यक्ष। कोशफल-(सं. पुं.) खीरा, बर। कोशफली-(सं. स्त्री.) खीरा, फूट। कोशल-(सं. पुं.) काशी के उत्तर अयोध्यासहित सरयु नदी के दोनों किनारों का सम्पूर्ण भूमि-भाग, इस प्रान्त का निवासी, अयोध्या नगर, एक क्षत्रिय जाति, एक राग विशेष; -मुता-(स्त्री.) रामचंद्र की माता, कौशल्या। कोशला-(सं. स्त्री.) अयोध्या नगरी, राम की राजधानी। कोशवान्-(सं. वि.) कोशयुक्त। कोशवृद्धि-(सं. स्त्री.) अण्डकोप की वृद्धि, धनसंचय। कोशवेश्म-(सं. पुं.) कोशागार। कोशांबी-(सं. स्त्री.) देखें 'कोशांबी'। कोशागार-(सं. पुं.) धनागार। कोशाध्यक्ष-(सं. पुं.) कुवेर, स्वजानची। कोशिका-(सं. स्त्री.) कोशी, छोटा बरतन। कोशिश-(फा. स्त्री.) चेष्टा, प्रयत्न। कोशी-(सं. स्त्री.) अन्न की बाल, व्याघ्र-नख, एक मुगधिन द्रव्य, कोशिकी नदी।

कोष-(सं. पुं.) देखें 'कोश'। कोष्ठ-(सं. पुं.) पेट का भीतरी भाग, आमाशय, घर का भीतरी भाग, कोठा, बखार, भंडार, चहारदीवारी। कोष्ठक-(सं. पुं.) घिरा हुआ स्थान, कोठी, अण्डा, अण्डकोप, अनेक खानों का चक्र, एक चिह्न जो लिखने में प्रयुक्त होता है और जिसके भीतर अंक या वाक्य लिखे जाते हैं [], { }, ()। कोष्ठबद्धता-(सं. स्त्री.) मल की हकावट। कोष्ठाग्नि-(सं. स्त्री.) जठरकी पाचनाग्नि। कोष्ठी-(सं. स्त्री.) जन्म-पत्रिका। कोष्ण-(सं. वि.) थोड़ा गरम, गुणगुना। कोस-(हि. पुं.) क्रोश, दो मील की दूरी जो पहिले चार हजार या आठ हजार हाथ की मानी जाती थी। कोसना-(हि. क्रि. स.) अभिशाप देना, गाली देना। कोसली-(सं. स्त्री.) एक प्रकारकी रागिणी। कोसा-(हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा रेशम, मिट्टी का बड़ा दीया, कसोरा। कोसा-काटो-(हि. स्त्री.) गाली दे-देकर कोसना। कोसिया-(हि. स्त्री.) मिट्टी का छोटा पात्र। कोसू-(हि. पुं.) कोसनेवाला। कोसों-(हि. अव्य.) कई कोस की दूरी पर। कोहँडौरी-(हि. स्त्री.) कोहँडे और उड़द की बरी। कोह-(हि. पुं.) अर्जुन का वृक्ष, क्रोध; (फा. पुं.) पर्वत, पहाड़। कोहना-(हि. क्रि. अ.) क्रुद्ध होना, रिसियाना। कोहनी-(हि. स्त्री.) देखें 'कुहनी'। कोहनूर-(फा. पुं.) भारत का एक इतिहास-प्रसिद्ध हीरा जो १८४६ में पंजाब-विजय के बाद ब्रिटेन के राजा की सम्पत्ति बना। कोहवर-(हि. पुं.) वह स्थान जहाँ विवाह के समय कुल-देवता की स्थापना होती है। कोहरा-(हि. पुं.) बुएँ के रूप में प्रातः-काल गिरनेवाली ओस, कुहरा। कोहल-(सं. पुं.) नाट्यशास्त्र-प्रणेता एक गन्धर्व। कोहार-(हि. पुं.) देखें 'कुम्हार'। कोहा-(हि. पुं.) चीड़े मुँह का मिट्टी का बड़ा पात्र जो नाद के आकार का होता है। कोहान-(हि. पुं.) ऊँट की पीठपर का कूबड़। कोहाना-(हि. क्रि. अ.) क्रुद्ध होना, गुस्सा होना, लुठना, रीसना। कोही-(हि. वि.) क्रोध।

काँच—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की लता जिसमें रोंएदार सेम की तरह की फलियाँ होती हैं जिसकी तरकारी खाई जाती है, कपिकच्छ, केवाँच ।

काँचा—(हि. पुं.) देखें 'कमची' ।

काँच—(सं. वि.) कुंती के पुत्र, अर्जुन ।

काँच—(हि. स्त्री.) देखें 'काँच' ।

काँच—(हि. स्त्री.) विजली की चमक ।

काँचना—(हि. क्रि. अ.) विजली का चमकना ।

काँला—(हि. पुं.) एक प्रकार का मीठा नीबू ।

काँ—(हि. प्रत्य.) सम्प्रदान और संबन्ध कारक की विभक्ति ।

काँआ—(हि. पुं.) एक साधारण काला पक्षी, गले के भीतर की घाँटी, घृत मनुष्य ।

काँआठाठी—(सं. स्त्री.) एक लता जिसका फूल कोए की चाँच के आकार का होता है, काकतुंडी, काकनासा ।

काँआना—(हि. क्रि. अ.) अंडवंड बकना, बरतना, भीचकना होना, निश्चेष्ट होना ।

काँआ-परी—(हि. स्त्री.) काली-कलुटी स्त्री ।

काँआ-रोर—(हि. पुं.) हल्ला, कोलाहल ।

काँआल—(हि. पुं.) देखें 'काँवाल' ।

काँआली—(हि. स्त्री.) देखें 'काँवाली' ।

काँआल्य—(सं. पुं.) वाल्वालयन ऋषि ।

काँआक—(सं. पुं.) मांस-विक्रता, व्याप ।

काँआल्य—(सं. पुं.) कुटिलता, क्रूरता, टट्टापन, चाणक्य का एक नाम ।

काँआविक—(सं. वि.) कुटुम्ब के पालन-पोषण में लगा हुआ, कुटुम्ब संबंधी ।

काँआ—(हि. पुं.) बड़ी कोड़ी, जाड़ के दिनों में गड्ढे में जलाई हुई आग, अलाव ।

काँआिया—(हि. वि., पुं.) कोड़ी के रंग का, कुछ कालापन लिये हुए श्वेत, काँडिल्ला ।

काँआपाला—(हि. वि., पुं.) कोकई, हल का नीला रंग जिसमें गुलाबी की कुछ धाभा हो, कृपण, कंजूम, छोट-छोट फलों का एक पौधा ।

काँआियाही—(हि. स्त्री.) कोड़ियों में रूकाया जानेवाला मूलक; (वि. स्त्री.) कोड़ियों पर काम करनेवाली ।

काँआिल्ला—(हि. पुं.) मत्तरी गानेवाली एक निडिया ।

काँआी—(हि. स्त्री.) कापिका, घोंघे की तरह का एक मनुष्य की भाँति जिसका अंगिष्ठोप मित्ते की तरह काम में आता था, धर, रमना-नैना, कर, आँच का देवा, मिर्छी जो काँच का जीप में पीछे से छोटी मनुषी जो दारुओं के पत्रों कोच में छोटी है, अलाव की नीच;

(मुहा.)—**का**—निकम्मा, तुच्छ; —**का** दो—व्यर्थ का; —**का** नहीं—निष्फल, बेकार; —**के** तीन तीन होना—बहुत सस्ता होना, तुच्छ होना; —**कोड़ी** को मुहताज—बहुत गरीब हालत; —**कोड़ी** जोड़ना—थोड़ा-थोड़ा करके संचय करना; —**कोड़ी** वेवाक करना—पूरा ऋण चुकाना; —**फिरना**—जुएँ में किसी का दाँव फिरना; **कानी कोड़ी**—(स्त्री.) टूटी कोड़ी; **चिल्ली कोड़ी**—(स्त्री.) वह कोड़ी जिसकी पीठ पर उभड़ी गाँठ हो ।

काँइना—(हि. पुं.) कसरे का नकाशों करने का एक यंत्र ।

काँणप—(सं. पुं.) राक्षस; (वि.) अघर्षी ।

काँतिग—(हि. पुं.) देखें 'काँतुक' ।

काँतुक—(सं. पुं.) आश्चर्य, अचंभा, परिहास, आनन्द, हँसी-ठिठोली, विनोद, कुतूहल, नाच-गाना, प्रसन्नता; —**रुता**—(पुं) तमाशा दिखलानेवाला ।

काँतुकिया—(हि. वि.) तमाशा करनेवाला, विवाह सम्बन्ध स्थिर करनेवाला (नाऊ, पुरोहित इत्यादि) ।

काँतुकी—(सं. वि.) तमाशा दिखलानेवाला ।

काँतूहल—(सं. पुं.) किसी नये या अपरिचित विषय के जानने-सुनने या देखने का आग्रह ।

काँथ—(हि. स्त्री.) कान-नी तिथि । (यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होता है ।)

काँया—(हि. वि.) किस संस्था का, किस स्थान का ।

काँन—(हि. सर्व.) प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसके द्वारा अभिप्रेत व्यक्ति या वस्तु पूछी जाती है, विभक्ति लयन में "काँन" का रूप "किम" हो जाता है, कैना, किस प्रकार का; (मुहा.)—**होना**—**काँन**—ना सम्बन्ध या रिश्ता होना या करना ।

काँनप—(सं. पुं.) देने 'काँनप' ।

काँनपन—(सं. पुं.) मन्सानी इत्यादि के पड़ितने की लंबाई, कच्छा, ककनी ।

काँवेर—(सं. वि.) कुवेर संबंधी ।

काँवेरी—(सं. स्त्री.) कुवेर की शक्ति ।

काँम—(अ. स्त्री.) जाति, रंग, जात ।

काँमार—(सं. पुं.) बचपन, रम्य में पतिवर्ष तक की अवस्था, मन के अनुसार मोक्षक वर्ष तक का वय, गुमार, पति, रामाय, अतिशयित वृत्त ।

काँमारभय—(सं. पुं.) काँमार के एक संत जिसमें काँमारों के काँमार-संभय तथा निरिच्छा का भय है ।

काँमारिक—(सं. वि.) काँमार संबंधी ।

काँमारो—(सं. स्त्री.) पहिली स्त्री, काँचिकेय की शक्ति, एक मातृका का नाम, वाराहकिन्द, श्रीकुमार ।

काँमी—(अ. वि.) काम या जाति में संबंध ।

काँमुदिक—(सं. वि.) कुमुद संबंधी ।

काँमुदी—(सं. स्त्री.) ज्योत्स्ना, चाँदनी, कामिक या आश्विन की पूर्णिमा, दीर्घमास की तिथि या उत्सव, भूमधाम, कुम्दिनी; —**जीवन**—(पुं.) चतोर पंथा; —**पति**—(पुं.) चन्द्रमा ।

काँमोवकी—(सं. स्त्री.) विष्णु की गदा का नाम ।

काँमोदी—(सं. स्त्री.) देखें 'काँमोदकी' ।

काँर—(हि. पुं.) कवाल, निवाला, एक बार मुँह में डाली जानेवाली गाने की वस्तु, गान, चरणी में एक बार पानने के लिये डाला जानेवाला अन्न ।

काँरना—(हि. क्रि. सं.) थोड़ा भूतना, आँच पर किसी वस्तु को नोकना ।

काँरव—(सं. पुं.) कुरु राजा की मन्सि, कुरुदेश का राजा; (वि.) कुरुसम्बन्धी; —**पति**—(पुं.) दुर्वाषन ।

काँरा—(हि. पुं.) द्वार का दोनों ओर का पान, कोड़ा, अलाव, कुने आदि को दिया जानेवाला रोटी का टुकड़ा ।

काँरी—(हि. स्त्री.) क्राँड़, गोर, अंकमार, अनाज के कटे हुए पीचे जो भूयों को दिये जाते हैं ।

काँलंज—(हि. पुं.) पत्थरियों के नीचे की पीड़ा, वायुमूल ।

काँल—(सं. वि.) उत्तम वृत्त में उत्पन्न, तात्त्विक कृत्वाचार मनसनेवाला, धाम-मार्गी; (हि. पुं.) एक प्रकार का गाना, धाम, कवच; (अ. पुं.) प्रतिभा, प्रज्ञ, प्रज्ञ ।

काँलर—(हि. वि.) नारंगी रंग का, गाल पीले रंग का ।

काँल-कारर—(अ. पुं.) पत्थर की जालेवाली रूट प्रसिद्धा ।

काँलदेव—(सं. वि.) मूलक का पुत्र, जारकार ।

काँला—(हि. पुं.) रमण, मारंगी, कोय, मोर, जार का पौधा ।

काँलिज—(सं. पुं.) जामा; (वि.) पारंगी, शोभा, पुन-मरंगी ।

काँलीज—(सं. वि.) कर्पूर, धाममार्गी ।

काँलीज—(सं. पुं.) काँलीज ।

काँलीज—(सं. वि.) काँलीज का पुत्र, काँलीज ।

काँला—(हि. पुं.) देखें 'काँला'; —**काँली**—(स्त्री.) देखें 'काँली'; —**काँली**—(स्त्री.)

देखें 'कौआ-परी'; -रोर-(पुं.) देखें 'कौआरोर'।

कौवाली-(हि. पुं.) कौवाली गानेवाला।

कौवाली-(हि. स्त्री.) सूफियाना गजल या गीत जो मजलिसों में गाया जाता है।

कौशल-(सं. पुं.) कुशलता, चानुरी, कारी-गरी, मलाई, कौशल देश का निवासी।

कौशलेय-(सं. पुं.) दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, श्रीरामचन्द्र।

कौशल्य-(सं. स्त्री.) कौशल देश के राजा की कन्या, दशरथ की प्रधान रानी, राम की माता।

कौशांची-(सं. स्त्री.) एक प्राचीन नगर।

(कुश के पुत्र कौशाम्ब ने इसको वसाया था।)

कौशिक-(सं. पुं.) इन्द्र, विश्वामित्र, कुशिक राजा के पुत्र गाधि, कोपाध्यक्ष, रेशम का कीड़ा, घड़ियाल, मगर, सर्प, नेवला, गुग्गुलु, उल्लू पक्षी, एक प्रकार का राग, रेशमी वस्त्र, शृंगार रस, एक उप-पुराण का नाम, अथर्व वेद का एक सूत्र।

कौशिका-(सं. स्त्री.) पानी पीने का पात्र, एक प्रकार की मदिरा।

कौशिकी-(सं. स्त्री.) चण्डिका, कुशिक राजा की पीठी जो ऋचीक मुनि को व्याही थी, रामायण में कही हुई एक नदी, एक नाटकीय रचना, एक रागिणी का नाम।

कौशिल्य-(सं. पुं.) इस गौत्र के प्रवर्तक एक ऋषि विशेष।

कौशील्य-(सं. पुं.) खेल-तमाशो का व्यवसाय।

कौशेय-(सं. वि., पुं.) रेशमी, रेशम का वस्त्र।

कौषिक-(सं. पुं.) देखें 'कौशिक'।

कौषिकी-(सं. स्त्री.) देखें 'कौशिकी'।

कौपीतकी-(सं. स्त्री.) ऋग्वेद के अन्तर्गत ब्राह्मण; आरण्य और उपनिषद् का भेद।

कौसल-(हि. पुं.) देखें 'कौशल'।

कौसलेय-(सं. पुं.) देखें 'कौशलेय'।

कौसल्या-(सं. स्त्री.) देखें 'कौशल्य'।

कौसीद-(सं. वि.) व्याज लेनेवाला।

कौसुभ-(सं. पुं.) जंगली कुसुम।

कौसुग-(सं. वि.) कुसुम संबंधी।

कौस्तुभ-(सं. पुं.) विष्णु का हृदय-रूपण मणि जो समुद्र-मन्थन में समुद्र में निकला था, हृद्योग की एक मुद्रा।

कषा-(हि. मं.) प्रश्नवाचक शब्द, कौन यस्तु है, (इस शब्द के द्वारा किसी विषय में प्रश्न किया जाता है। इसमें कोई विभक्ति नहीं लगती); (वि.) कितना, ऐसा

कैसा, इतना, अनोखा, निराला, अच्छा; (अव्य.) क्यों नहीं, काहे को; -कहना है या क्या खूब-घण्ट है; -चीज है-बुच्छ है; -जाता है- क्या हानि होती है; -जाने-मालूम नहीं है; और क्या-हाँ, ऐसा ही है।

क्यारी-(हि. स्त्री.) कियारी।

क्यों-(हि. अव्य.) किस कारण, किस लिये, (इस शब्द से किसी व्यापार या घटना का कारण व्यक्त होता है); कैसे, किस प्रकार; -कर-(अव्य.) किस प्रकार से; -कि-(अव्य.) इसलिये कि; -नहीं-ऐसा ही ठीक है।

क्रंद-(सं. पुं.) घोड़े की हिनहिनाहट, चीख।

क्रंदन-(सं. पुं.) रुलाई, लड़ाई में ललकार।

क्रंदित्-(सं. वि.) ललकारा हुआ।

क्रकच-(सं. पुं.) करील का वृक्ष, आरा, केतकी, केवड़ा, वातादि-जनित सन्निपात ज्वर, ज्योतिषशास्त्र का एक अशुभ योग।

क्रतु-(सं. पुं.) सप्त ऋषियों में से एक, सोमरस, विष्णु, आपाढ़ मांस, अश्वमेध-यज्ञ, संकल्प, निश्चय, इच्छा, अभिलाषा; -कर्म-(पुं.) याग, यज्ञ; -पति-(पुं.) यज्ञेश्वर, विष्णु; -ध्वंसी-(पुं.) दक्ष का यज्ञ विध्वंस करनेवाले शिव;

-पशु-(पुं.) घोड़ा; -फल-(पुं.) यज्ञ का फल, स्वर्गादि; -भुक्-(पुं.) देवता।

क्रम-(सं. पुं.) वदिक विधान, शक्ति, चरण, शैली, प्रणाली, आक्रमण, पैर रखने का काम, अनुक्रम, आगे-पीछे रहने की स्थिति, चाल, परिपाटी, वह अलंकार जिसमें किसी बात का वर्णन क्रम से किया जाता है; -क-(पुं.) क्रम से अध्ययन करनेवाला; -ज्या-(स्त्री.) गणित ज्योतिष में क्रान्तिज्या; -ण-(पुं.) एक स्थान या स्थिति से दूसरे में जाना;

-णीय-(वि.) आक्रमण करने योग्य; -प्राप्त-(वि.) क्रम से मिला हुआ; -वद्ध-(वि.) क्रमयुक्त, सिलसिलेवार;

-विकास-(पुं.) धीरे-धीरे विकास होना; -भंग-(पुं.) क्रम का टूटना; -ज्ञ-(अव्य.) क्रम-क्रम से, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके; -संन्यास-(पुं.) वह संन्यास जो क्रम से अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ आश्रम के बाद लिया जावे।

क्रमांक-(सं. पुं.) क्रम-संख्या।

क्रमागत-(सं. वि.) क्रम से प्राप्त, वंश परंपराक्रम से प्राप्त।

क्रमानुसार-(सं. अव्य.) क्रमानुक्रम, क्रम से।

क्रमात्-(सं. अव्य.) क्रम या सिलसिले से, यथानुक्रम।

क्रमानुकूल-(सं. अव्य.) देखें 'क्रमानुसार'।

क्रमिक-(सं. वि.) क्रमवर्ती, क्रमयुक्त, परंपरा-प्राप्त, कुलक्रम से प्राप्त।

क्रमुक-(सं. पुं.) पुंगीफल, सुपारी, नागरमोथा, कपास का विनौला, देवदारु, शहतूत, एक प्राचीन जनपद का नाम।

क्रमेल-(सं. पुं.) उष्ट्र, ऊँट।

क्रमेलक-(सं. पुं.) देखें 'क्रमेल'।

क्रम्य-(सं. पुं.) मोल लेने या खरीदने का काम; -कर्ता-(पुं.) क्रेता, मोल लेनेवाला; -लेख्य-(पुं.) वयनामा, कवाला;

-विक्रय-(पुं.) मोल लेने और बेचने का काम, वाणिज्य।

क्रयी-(सं. पुं.) क्रेता।

क्रय्य-(सं. वि.) बेचने के लिये रक्खा हुआ (सामान), विकनेवाला।

क्रव्य-(सं. पुं.) मांस, गोस्त।

क्रव्यभुवत्-(पुं.) राक्षस, मांस-भोगी।

क्रव्याद-(सं. पुं.) मांस खानेवाला जीव, राक्षस, सिंह, श्येन पक्षी, अग्नि।

क्रांत-(सं. वि.) आक्रान्त, दबा हुआ, अतीत, बीता हुआ, ग्रस्त, बढ़ा हुआ।

क्रान्ति-(सं. स्त्री.) पाद-विक्षेप, पैर, रखने की स्थिति, नक्षत्र की गति, राशिचक्र की मध्यरेखा, विषुवत् रेखा से उत्तर कर्कट क्रान्ति तक अथवा दक्षिण में मकर क्रान्ति तक सूय की दूरी, परिवर्तन, हेर-फेर, उलट-फेर;

-क्षेत्र-(पुं.) नक्षत्र की गति जानने के लिये खींचा हुआ क्षेत्र; -ज्या-(स्त्री.) क्रान्तिवृत्त में स्थित अर्धक्षत्र का एक अवयव; -पात-(पुं.) विषुवत् रेखा तथा अयन-मण्डल के मिलाप का स्थान जहाँ पर पृथ्वी के आने से दिन-रात बराबर होते हैं; -भाग-(पुं.) क्रान्ति-ज्या का चिह्न; -मंडल-(पुं.) वह वृत्त जिसमें सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है; -बलय-(स्त्री.) देखें 'क्रान्तिमंडल'; -वृत्त-(पुं.) सूर्य का मार्ग; -साम्य-(पुं.) ग्रहों की तुल्य क्रान्ति; -सूत्र-(पुं.) ध्रुव नक्षत्र को स्पर्श करनेवाला क्रान्तिसमूह का एक योग।

क्रिमि-(सं. पुं.) देखें 'कृमि'।

क्रिमिजा-(सं. स्त्री.) लाख।

क्रियमाण-(सं. वि.) प्रस्तुत किया जानेवाला।

क्रिया-(सं. स्त्री.) कार्य, क्रम, आरम्भ, निपटारा, ठहराव, शिक्षा, पूजा, उपाय;

क्लेश-(सं. पुं.) दुःख, कष्ट, पीड़ा, वेदना, कलह; -कारी-(वि.) कष्ट देनेवाला।

क्लेशित-(सं. वि.) क्लेशयुक्त, पीड़ित।

क्लेश्य-(सं. पुं.) क्लीवता, नपुंसकता।

क्लोम-(सं.पुं.) फुफफुम, दाहिना फेफड़ा।

क्वचित्-(सं.अव्य.) कमी, गायद ही कोई।

क्वण-(सं.पुं.) वीणा का शब्द, कलकल शब्द।

क्वणन-(सं.पुं.) जनजन शब्द निकलना।

क्वणित-(सं. वि.) वीणा की तरह गूँजता हुआ।

क्वय-(सं. पुं.) काढ़ा, क्वाय।

क्वयन-(सं.पुं.) काढ़ा बनाने की क्रिया।

क्वयित-(सं. वि.) पकाया हुआ, उवाला हुआ।

क्वयिता-(सं. स्त्री.) कढ़ी।

क्वाय-(सं.पुं.) कपाय, काढ़ा, औषधियों को पानी में उवाल कर गाढ़ा किया हुआ रस।

क्वारछल, क्वारपन-(हि.पुं.) अविवाहित अवस्था, क्वारापन।

क्वारा-(हि. वि.) जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित; -पन-(पुं.) देखें 'क्वारपन'।

क्षतव्य-(सं. वि.) देखें 'क्षम्य'।

क्षण-(सं. पुं.) छन, निमेष का चतुर्याग, बहुत अल्प समय, अवसर, प्रगस्त मुहूर्त, उत्सव, पर्व का दिन, आनन्द, अवकाश; -क्षण-(अव्य.) बार-बार, छिन-छिन।

क्षणदा-(सं. स्त्री.) रात, रात्रि।

क्षणद्युति, क्षणप्रकाशा, क्षणप्रभा-(सं.स्त्री.) विद्युत्, विजली।

क्षणन-(सं.पुं.) हिंसा, वच, चूर्ण करना, पिसाई।

क्षणभंगुर-(सं. वि.) अनित्य, क्षण भर में नष्ट हो जानेवाला।

क्षणविध्वंसी-(सं.वि.) क्षणिक, क्षणभंगुर।

क्षणिक-(सं.वि.) क्षणमात्र टहरनेवाला, अनित्य, क्षणभंगुर; -दाद-(पुं.) बौद्ध दार्शनिकों का यह सिद्धांत कि प्रत्येक वस्तु एक क्षण में नष्ट हो जाती है।

क्षणिका-(सं. स्त्री.) विद्युत्, विजली।

क्षणो-(सं. वि.) क्षणस्थायी।

क्षत-(सं. वि.) पीड़ित, घाव लगा हुआ, क्षतियुक्त, घिगा हुआ; (पुं.) दुःख, पीड़ा, घाव, व्रण, फोड़ा, मारना, काटना; -त्र-(पुं.) रक्त, मोह, पीव; (वि.) क्षत या चोट से उत्पन्न, लाल; -त्रण-(पुं.) चोट से

उत्पन्न घाव; -योनि-(वि.) वह योनि जिसका पुरुष से सम्बन्ध हो चुका हो; -विक्षत-(वि.) बुरी तरह घायल, लहलुहान; -त्रत-(वि.) जिसका नियम भंग हो गया हो।

क्षता-(सं. स्त्री.) वह कन्या जो विवाह के पहले क्षतयोनि हो चुकी हो।

क्षति-(सं. स्त्री.) हानि, घाटा, नाश, कमी; -प्रस्त-(वि.) जिसकी क्षति हुई हो; -पूति-(स्त्री.) हानि का पूरा होना, घाटे की पूति।

क्षतोदर-(सं.पुं.) पेट का एक रोग।

क्षत्र-(सं. पुं.) क्षत्रिय, राष्ट्र, राज्य, आधिपत्य, बल, धन, शरीर, जल; -कर्म-(पुं.) क्षत्रियों का काम, शूरता, पराक्रम इत्यादि; -धर्म-(पुं.) क्षत्रियों का अवश्य-पालनीय धर्म; -प-(पुं.) सौराष्ट्र का एक प्राचीन राजवंश; -पति-(पुं.) क्षत्रियों का पालक राजा; -योग-(पुं.) अथर्ववेदोक्त राजयोग विशेष; -वर्धन-(वि.) धन तथा बल बढ़ानेवाला; -विद्या-(स्त्री.) धनुर्वेद; -वेद-(पुं.) क्षत्रविद्या।

क्षत्रिय-(सं. पुं.) द्विजातियों के अन्तर्गत दूसरा वर्ण, राजा।

क्षत्रिया, क्षत्रियाणी-(सं.स्त्री.) क्षत्रीकी स्त्री।

क्षत्री-(सं. पुं.) देखें 'क्षत्रिय'।

क्षपणक-(सं.पुं.) नास्तिक मत प्रचारक बौद्ध संन्यासी; (वि.) निलज्ज।

क्षपा-(सं. स्त्री.) रात्रि, रात; -कर-(पुं.) चन्द्रमा, कर्पूर, कपूर; -चर-(पुं.) निशाचर, राक्षस; -चरी-(स्त्री.) राक्षसी, डाइन; -नाय-(पुं.) क्षपाकर; -पति-(पुं.) निशापति, चन्द्रमा।

क्षम-(सं. वि.) योग्य, उपयुक्त, समर्थ, कर सकनेवाला, हितकारी, भला, क्षमायुक्त, क्षमा करनेवाला; (पुं.) बल, सामर्थ्य, शक्ति।

क्षमणीय-(सं. वि.) क्षमा करने योग्य।

क्षमता-(सं. स्त्री.) सामर्थ्य, योग्यता।

क्षमना-(हि. क्रि. स.) क्षमा करना।

क्षमनीय-(हि. वि.) देखें 'क्षमणीय'।

क्षमवाना-(हि.क्रि. स.) क्षमा कराना।

क्षमा-(सं. स्त्री.) दूसरे से कष्ट पाकर चुपचाप सहन करने की चित्तवृत्ति, क्षान्ति, सहिष्णुता, पृथ्वी, दुर्गा, राधिका को एक सखी, खैर का वृक्ष।

क्षमाई-(हि.स्त्री.) क्षमा करने की क्रिया।

क्षमाना-(हि. क्रि. व.) क्षमा करना या करवाना।

क्षमान्वित-(सं. वि.) क्षमा-युक्त।

क्षमापन-(हि.पुं.) क्षमा करने का अभ्यास।

क्षमायुक्त-(सं. वि.) क्षमा करने की प्रवृत्ति-युक्त।

क्षमावान्-(सं. वि.) क्षमायुक्त, सहिष्णु, गमखोर।

क्षमाशील-(सं. वि.) क्षमा करने की प्रवृत्ति-युक्त।

क्षमितव्य-(सं. वि.) क्षमा करने योग्य।

क्षमी-(सं. वि.) क्षमाशील, सहिष्णु।

क्षम्य-(सं. वि.) क्षन्तव्य, क्षमा किया जानेवाला।

क्षय-(सं. पुं.) प्रलय, अपचय, ह्रास, कल्पान्त, नाश, धर, निवासस्थान, राज्यक्षमा रोग, सुखंडी, सूखा रोग, समाप्ति, अन्त, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वह महीना जिसमें दो रवि-संक्रांतियाँ पड़ती हैं। (क्षयमास केवल कार्तिक, अगहन और पूस में ही पड़ता है। जिस वर्ष में क्षयमास आता है, उसके तीन महीने पहिले और तीन महीने बाद एक अविक्त मास होता है); -कर-(वि.) नाश करनेवाला; -काल-(पुं.) प्रलय काल; -कास-(पुं.) क्षय-रोग की खांसी; -कासी-(पुं.) क्षय-कास से पीड़ित; -ग्रंथि-(स्त्री.) क्षय रोग में अंत्रों में होनेवाली ग्रंथि; -मास-(पुं.) ज्योतिषी गणनानुसार एक मास; -रोग-(पुं.) फेफड़ों में जखम हो जाने का दुस्साध्य रोग; -रोगी-(वि.) क्षय रोग से पीड़ित; -वायु-(पुं.) प्रलय काल की वायु।

क्षयिक-(सं. वि.) क्षय रोग से पीड़ित।

क्षयित-(सं. वि.) विगाड़ा या नाश किया हुआ।

क्षयित्व-(सं. पुं.) नाश।

क्षयिष्णु-(सं. वि.) क्षयशील, नष्ट होनेवाला।

क्षयी-(सं. वि.) नष्ट होनेवाला, यक्षमा का रोगी; (पुं.) चन्द्रमा; (हि.स्त्री.) क्षयरोग।

क्षय्य-(सं. वि.) नष्ट किये जाने योग्य।

क्षर-(सं. वि.) नाश होनेवाला; (पुं.) जल, मेघ, जीवात्मा, देह, अज्ञान।

क्षरण-(सं. पुं.) खवण, टपकना, चूना, नाश, छूटकारा।

क्षरित-(सं. वि.) चुआया हुआ, टपकाया हुआ।

क्षांत-(सं. वि.) क्षमाशील।

क्षांति-(सं. स्त्री.) क्षमा।

क्षातिमान-(सं. वि.) क्षमाशील।

खेत में उत्पन्न होनेवाला; -जात-(वि.) खेत में उत्पन्न होनेवाला; -ज-(पुं.) शरीर का अविच्छाता, जीवात्मा, सर्वज्ञ, परमेष्ठ्वर, विष्णु, साक्षी; (वि.) रसिक, शाता, खेत के विषय का जानकार; -द-(वि.) खेत का दान करनेवाला; -द-(पुं.) वटुक भैरव, ईश्वर, क्षेत्ररक्षक, खेत की रखवाली करनेवाला; -पति-(पुं.) खेत का रखवाला, किसान, परमात्मा; -पाल-(वि.पुं.) खेत का रक्षक, देवता विशेष, द्वारपाल, भैरव विशेष, प्रधान प्रबन्धकर्ता; -फल-(पुं.) क्षेत्रान्त-गंत स्थान का परिमाण; -भक्ति-(स्त्री.) खेत का बंटवारा, -भूमि-(स्त्री.) खेत की भूमि; -विद-(वि.) मर्म को जाननेवाला; (पुं.) क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा; -व्यवहार-(पुं.) कर्ण तथा लम्ब के मान की सहायता से क्षेत्र-परिमाण का निर्णय, यह ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति के नियमों से ज्ञात होता है; -संभूत-(वि.) खेत से उत्पन्न।

क्षेत्राधिप-(सं.पुं.) खेत का मालिक, वारह राशियों के अधिपति ग्रह।

क्षेत्रिक-(सं.पुं.) खेतवाला, किसान।

क्षेत्री-(सं.पुं.) स्वामी, पति, कृषक, किसान।

क्षेप-(सं.पुं.) निन्दा, बुराई, ठोकर, फेंकना, गर्व, घमंड, विलम्ब, देर, लंघन, दूरी, विस्तार, गुच्छा, असांश, विताना, गुजारना; -क-(वि.) फेंकनेवाला, मिश्रित, निन्दनीय; (पुं.) किसी ग्रन्थ में पीछे से मिलाया हुआ अंश, गुच्छा; -ण-(पुं.) लंघन, अपवाद, विक्षेप, फेंकना, मारण, रस्सी का बना हुआ सिकहर, परित्याग, फन्दा; -णोय-(वि.) फेंकन योग्य; -पात-(पुं.) ज्योतिष में ग्रहकक्षा और क्रान्तिमण्डल का योग।

क्षेपणिक-(सं.पुं.) बल्ले से नाव खेनेवाला।

क्षेप्ता-(सं.पुं.) फेंकनेवाला।

क्षेमकर-(सं.वि.) मंगल करनेवाला।

क्षेमकर्त्री-(सं.स्त्री.) देवी-विशेष।

क्षेम-(सं.पुं.) चण्डा (सोवा) नामक आपधि, चन्द्रवंशीय शुचि राजा के पुत्र का नाम, लघ्व वस्तु का रक्षण, गुरक्षा, मुक्ति, छुटकारा, कुशल-मंगल, धानन्द, ज्योतिष-शास्त्र में जन्म-नक्षत्र से गणना का चौथा नक्षत्र; -क-(पुं.) एक नाम का नाम, एक राक्षस का नाम, निव; -कर-(वि.) मंगलकारक,

मलाई करनेवाला; कर्ण-(पुं.) अर्जुन के पौत्र का नाम; -कर्मा-(वि.) पालनेवाला; -कार-(वि.) मलाई करनेवाला; -कृत-(वि.) मंगलकारक; -दर्शी-(वि.) मलाई देखनेवाला; -वान्-(वि.) मंगलयुक्त, भला, अच्छा।

क्षेमा-(सं.स्त्री.) कात्यायनी देवी।

क्षेमासन-(सं.पुं.) हठयोग का एक आसन।

क्षेमिका-(सं.स्त्री.) हरिद्रा, हलदी।

क्षेम्य-(सं.वि.) मंगलकर, हितकर, भला।

क्षेय-(सं.वि.) नाश करने योग्य।

क्षेण्य-(सं.पुं.) क्षीणता।

क्षैरेय-(सं.वि.) दूध से बना हुआ।

क्षोड-(सं.पुं.) हाथी बांधने की सिकड़ी।

क्षोणि-(सं.स्त्री.) पृथ्वी, भूमि, एक की संख्या।

क्षोणिप-(सं.पुं.) पृथ्वीपति, राजा।

क्षोणी-(सं.स्त्री.) देखें 'क्षोणि'।

क्षोदित-(सं.वि.) खोदा हुआ, चूर्णित।

क्षोभ-(सं.पुं.) संचलन, विचलना, हलचल, चित्त की चंचलता, धवराहट, भय, डर, क्रोध; -ण-(वि.) घबड़ानेवाला; (पुं.) संचालन, कामदेव के पांच वाणों में से एक।

क्षोभित-(सं.वि.) व्याकुल, घबड़ाया हुआ, भयभीत, डरा हुआ, क्रुद्ध।

क्षोभी-(सं.वि.) चंचल, उद्विग्न, व्याकुल।

क्षोणि-(सं.स्त्री.) पृथ्वी, भूमि।

क्षोणी-(सं.स्त्री.) पृथ्वी, एक की संख्या।

क्षौद्र-(सं.पुं.) जल, पानी, वूलि, चम्पावृक्ष, ओछापन, छोटी मधुमक्खी का शहद।

क्षौद्रेय-(सं.पुं.) मोम।

क्षौम-(सं.पुं.) रेशमी कपड़ा, सन के तन्तु से बना हुआ वस्त्र, अटारी।

क्षौमिका-(सं.स्त्री.) सन की करघनी।

क्षौमी-(सं.स्त्री.) गुदड़ी, कयरी।

क्षौर-(सं.पुं.) मुण्डन कर्म।

क्षौरिक-(सं.पुं.) नापित, नारु।

क्ष्मा-(सं.स्त्री.) पृथ्वी, धरती, एक की संख्या; -ज-(पुं.) मंगल ग्रह; -तल-(पुं.) भूतल, पृथ्वी की सतह; -पति, -पाल-(पुं.) राजा; -भूत्-(पुं.) पर्वत, राजा।

क्ष्माधित-(सं.वि.) कांपनेवाला,

क्ष्वेड-(सं.पुं.) अव्यक्त ध्वनि, कान का एक रोग, विष, स्निग्धता, चिकनाई, मोचन, त्याग; (वि.) कुटिल, दुष्ट।

ख

ख-व्यञ्जन वर्ण का दूसरा अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ है; (सं.पुं.) इन्द्रिय, सूर्य, आकाश, नगर, क्षेत्र, शून्य विन्दु, गर्त, गड्ढा, निर्गमन, मार्ग, निकास, मुख, कर्म, देवलोक, गले की प्राणवायु जाने की नली, जन्मलग्न से दशम राशि, कुआँ, गड्ढा, स्वर्ग, तीर का धाव, चिदानन्दमय ब्रह्माकाश, मोक्ष। खंख-(हि.वि.) रिक्त, छूछा, उजाड़, निर्जन।

खँखरा-(हि.पुं.) चावल पकाने का बड़ा पात्र; (वि.) जिसमें बहुत छेद हों, छिद्रमय, जिसकी बुनावट घनी न हो, झीना।

खँखार-(हि.पुं.) देखें 'खँखार'।

खँखारना-(हि.क्र.अ.) देखें 'खँखारना'।

खंग-(हि.पुं.) तलवार, खड्ग, गँडा पशु।

खंगड़-(हि.वि.) झगड़ालू, गँवार; (पुं.) कूड़ा-करकट।

खँगना-(हि.क्र.अ.) कम होना, घटना।

खँगारना-(हि.क्र.स.) देखें 'खँगालना'।

खँगालना-(हि.क्र.स.) केवल जल डालकर किसी पात्र को घोना, खाली करना, सब कुछ उठा ले जाना या चुराना।

खँगी-(हि.स्त्री.) वृष्टि, कमी, घटी।

खँगल-(हि.वि.) खाँगवाला, दँतैल।

खँगारना-(हि.क्र.स.) देखें 'खँगालना'।

खँचना-(हि.क्र.अ.) चिह्न पड़ना, खिच जाना, बनना।

खँचाना-(हि.क्र.स.) चिह्न बनाना, शीघ्रता से लिखना।

खँचिया-(हि.स्त्री.) रहठे की बनी हुई डलिया।

खँजड़ी-(हि.स्त्री.) देखें 'खँजरी'।

खंजन-(सं.पुं.) एक प्रसिद्ध काली और सफेद पेटवाली चिड़िया जो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में शीत-ऋतु के आरंभ में दिखायी पड़ती है और जाड़े के बाद फिर दूसरे ठिकाने उड़ जाती है, खिडरिच, एक प्रकार का मात्रिक छन्द।

खंजर-(अ.पुं.) कटार, तलवार।

खँजरी-(हि.स्त्री.) डफली की तरह का एक छोटा बाजा, धारीदार कपड़ा।

खँजरीट-(सं.पुं.) खंजन पक्षी।

खंड-(सं.पुं.) टुकड़ा, भाग, ग्रंथ का भाग, प्रदेश, अंचल, समूह, वीजगणित को एक क्रिया, चाँडसारी, चीनी; (वि.) टुकड़ा किया हुआ, कटा हुआ, अपूर्ण,

खंडित; -कंद-(पुं.) शकरकंद या जमीकंद; -कथा-(स्त्री) छोटी कथा या कथानक; -काव्य-(पुं.) महाकाव्य से छोटा काव्य; -प्रलय-(पुं.) पुराणानुसार सहस्राब्दि चतुर्युग बीतने के बाद होने-वाला आंशिक सृष्टि-नाश या प्रलय; (क्रि.प्र.) -करना-टुकड़े-टुकड़े करना।
 खंडक-(सं. पुं., वि.) खंड या टुकड़े करनेवाला, काटनेवाला।
 खंडन-(सं. पुं.) काटना, टुकड़े करने की क्रिया, निराकरण, वात काटना।
 खंडन-मंडन-(हि.पुं.) बहस, विवाद।
 खंडना-(हि. क्रि. स.) खंड-खंड करना।
 खंडनीय-(सं. वि.) खंडन या टुकड़े करने योग्य।
 खंडपुरी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की मेवा और शक्कर भरी हुई पुरी।
 खंडरना-(हि. क्रि. स.) खंड-खंड या टुकड़े-टुकड़े कर देना।
 खंडरा-(हि. पुं.) बेसन का तेल में छाना हुआ पकवान।
 खंडरिच-(हि. स्त्री.) खिडिरिच, खंजन।
 खंडला-(हि.पुं.) किसी वस्तु का बड़ा टुकड़ा।
 खंडसार-(हि. स्त्री.) शक्कर बनाने का स्थान।
 खंडसारी-(हि. स्त्री.) देशी चीनी, इसके निर्माण का लघु उद्योग-केन्द्र।
 खंडशः-(सं. अथ्य.) खंड-खंड करके।
 खंडहर-(हि. पुं.) टूटा-फूटा मकान।
 खंडित-(सं. वि.) खंड किया हुआ, टूटा हुआ, भग्न, निराकृत।
 खंडौरा-(हि. पुं.) शक्कर का बना हुआ लड्डू, झोला।
 खंतरा-(हि. पुं.) छेद, दरार, कोना।
 खंता-(हि.पुं.) भूमि जोड़ने का फरसा, गड्ढा जिसमें से कुम्हार मिट्टी लेते हैं।
 खंथक-(अ. स्त्री.) साई, गहरा गड्ढा, गर्त।
 खंदा-(हि. पुं.) देरा 'खंदक'
 खंधा-(हि. पुं.) आर्या छन्द का एक भेद।
 खंभ-(हि. पु.) स्तम्भ, संभा, सहारा।
 खंभा-(हि. पुं.) स्तम्भ, गड़े बल आगार के लिये लगाया हुआ पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा।
 खंभार-(हि. पुं.) चिन्ता, व्याकुलता, प्रयत्न, जग, उर, चोकर।
 खंभानी-(हि. स्त्री.) देवे 'गंभारी'।
 खंभावाणी-(हि. स्त्री.) आषी राज को माने की एक गणित।
 खंभिया-(हि. स्त्री.) छोटा पत्थर गंगा।
 खंभ- (हि. स्त्री.) शय, नाश, लज्जा-लज्जा।
 खंभ- (सं. स्त्री.) आकाश की परिधि।

खकामिनी-(सं. स्त्री.) दुर्गा की एक मूर्ति।
 खकुंतल-(सं. पुं.) शिव, महादेव।
 खक्खा-(हि. पुं.) अट्टहास, जोर की हंसी, अनुभवी पुरुष, बड़ा हाथी।
 खक्खासाह-(हि. पुं.) चतुर व्यापारी।
 खखरा-(हि. पुं.) बड़ा डेग, बांस का टोकरा; कुएं के लिए खोदा हुआ गड्ढा; (वि.) छिद्रमय।
 खखरिया-(हि. स्त्री.) बेसन या मंदे की पतली पुरी।
 खखसा-(हि. पुं.) खेकसा, बनकरेला।
 खखार-(हि. पुं.) गाढ़ा कफ या धूक जो खखारने से मुंह से बाहर निकलता है।
 खखारना-(हि. क्रि. अ.) वेग से धूकना या खांसना, वेग से कफ बाहर निकालना।
 खखेटना-(हि. क्रि. स.) भगाना, मारना, दवाना।
 खखौरना-(हि. क्रि. स.) घुरचना, गली भांति ढूंढना।
 खगंगा-(सं. स्त्री.) आकाशगंगा, मन्दाकिनी।
 खग-(सं. पुं.) सूर्य, ग्रह, चन्द्रमा, देवता, वाण, पक्षी, वायु, टिड्डी, लवा पक्षी, पारा; (वि.) आकाश में चलनेवाला।
 खगकेतु-(सं. पुं.) गरुड़।
 खगकोटर-(सं. पुं.) वृक्ष का कोटर।
 खगगति-(सं. स्त्री.) पक्षी की गति, प्रहों की गति।
 खगना-(हि. क्रि. अ.) घंसना, चुनना, मन में घंसना, अच्छा लगना, लिप्त होना, लगना, चिपकना, उतर आना, बन जाना, पड़े रहना, अटकना, चिह्नित होना।
 खगपति-(सं. पुं.) सूर्य, गरुड़।
 खगवती-(सं. स्त्री.) पृथ्वी।
 खगहा-(हि. पुं.) गड़ा।
 खगाधिप-(सं. पुं.) गरुड़।
 खगासन-(सं. पुं.) विष्णु।
 खगुण-(सं. वि.) जिनका गुणक मूल्य हो।
 खगेश, खगेखर, खगेश-(सं. पुं.) गिर, गरुड़।
 खगोल-(सं. पुं.) आकाशमण्डल, खगोल-विद्या।
 खग-(हि. पुं.) गरुड़, तलवार।
 खगोल-विद्या-(सं. स्त्री.) नक्षत्र, ग्रह आदि के विषय में ज्ञानप्राप्त कराने की विद्या, गणित ज्योतिष।
 खगास्त-(सं. पुं.) नम्रून घहन, मूयं या चन्द्र का वह प्रकाश जिसमें उनका नम्रून अंश बाना पद धाय और भंगकार हो जाय।

खचन-(हि. पुं.) अंकित करने, जोड़ने या बांधने की क्रिया।
 खचना-(हि. क्रि. अ.) जड़ना, अंकित होना, बनना, उतरना, टिकना, रहना, फेंगना, अटकना।
 खचर-(सं. पुं.) मेघ, बादल, वायु, हवा, मूयं, राक्षस, ग्रह, नक्षत्र, चाप, पक्षी; (वि.) आकाश में चलनेवाला।
 खचरा-(हि. वि.) दुष्ट, वपंसेकर, दोगला।
 खचाखच-(हि. अथ्य.) ठनाठन, बिल-कुल मरा हुआ।
 खचाना-(हि. क्रि. स.) खीचना, बनाना, लिखना।
 खचारी-(सं. वि.) आकाशगामी, आकाश में चलनेवाला; (पुं.) कासिकेय, गजर, खचाखट-(हि. स्त्री.) खीचने की क्रिया।
 खचित-(सं. वि.) खीचा हुआ, निश्चित लिखित।
 खचिया-(हि. स्त्री.) छोटी टोकरी, दोरी, खंचिया।
 खचर-(हि. पुं.) गढ़े और घोड़ों के संयोग से उत्पन्न पशु।
 खज-(सं. पुं.) मयानी, पुड़; (क्रि. वि.) राय, माने योग्य।
 खजक-(सं. पुं.) मयानी।
 खजल-(सं. पुं.) तुपार, पाला, मेघ का जल।
 खजला-(हि. पुं.) राजा नाम की मिट्टी।
 खजहजा-(हि. वि.) गाने योग्य मेवा या फल।
 खजाफ-(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया।
 खजानची-(फा. पुं.) राजाने का अधिकारी, कोशाध्यक्ष।
 खजाना-(फा. पुं.) कोश, धन-संभार, धनागार; -अफसर-(पुं.) राजाने का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी।
 खजुआ-(हि. पुं.) देवे 'गंभारी'।
 खजुरा-(हि. पुं.) स्त्रियों की घोड़ी में बांधने की दोरी।
 खजुराही-(हि. स्त्री.) गरुड़ का अंश।
 खजुरिया-(हि. स्त्री.) छोटा माल, एक प्रकार की मिट्टी, एक विष्णु की उपासना।
 खजुना-(हि. पुं.) राजा नाम की मिट्टी।
 खजुनाला-(हि. वि. स.) देवे 'गंभारी'।
 खजुनी-(हि. स्त्री.) माल, खजुरी, एक प्रकार का कौन सा कौन सा कौन से कौन होने से खजुनी होने खजुनी, खजुनी की लक्ष्य का एक मिट्टी।
 खजुर-(हि. पुं., स्त्री.) माल की खजुरी का एक रूप जिसमें एक खजुरी के प्रकार में होने से एक प्रकार के मिट्टी।

खजूरा—(हि. पुं.) खजूर का बँडेर, कन-खजूरा।
 खजूरी—(हि. वि.) खजूर संबंधी, खजूर के आकार का, तीन लड़ों को गूँथकर बनाया हुआ।
 खज्योति—(सं. पुं.) खद्योत, जुगनू।
 खट—(सं. पुं.) कफ, हल, तृण, घास; (हि. पुं.) दो पदार्थों के टकराने का शब्द, किसी पदार्थ के टूटने से उत्पन्न शब्द; (हि. वि.) अम्ल, खट्टा; —से-नुरत।
 खटक—(हि. स्त्री.) खट का शब्द, खटका।
 खटकना—(हि. क्रि. अ.) खटखट शब्द होना, रह-रहकर दुखना, टपकना, बुरा जान पड़ना, अलग होना, मय खाना, डरना, झगड़ा लगना, दिल धड़कना, उचटना, विरक्त होना, ठीक न ज्ञात होना, अनिष्ट की आशंका होना।
 खटका—(हि. पुं.) खटखट शब्द, आशंका, चिन्ता, सिटकिनी, कोई पेंच जिसके दवाने से 'खट' शब्द होता है, पक्षियों को उड़ाने के लिये पेड़ में लटकाया हुआ वाँस का टुकड़ा।
 खटकाना—(हि. क्रि. स.) खटखट करना, बजाना, छेड़ना, डराना, ठीकना, फेंकना, विगाड़ कराना।
 खटकीड़ा—(सं. स्त्री.) खटमल।
 खटखट—(हि. स्त्री.) ठोंकने-पीटने से उत्पन्न शब्द, फँसाव, झंझट, उलझन, विवाद, बखड़ा, झगड़ा।
 खटखटा—(हि. पुं.) चिट्टियों को भगाने के लिए पेड़ में रस्सी से बाँधा हुआ वाँस का टुकड़ा।
 खटखटाना—(हि. क्रि. स.) खटखट करना, बारंबार चोट मारना, खड़खड़ाना, चेताना।
 खटना—(हि. क्रि. अ., स.) धन व्यय करना, काम में लगे रहना।
 खटपट—(हि. स्त्री.) लड़ाई, झगड़ा, वाद-विवाद, अनयन, खटखट शब्द।
 खटपटिया—(हि. वि.) झगड़ालू, लड़ाका।
 खटपट—(हि. पुं.) देखें 'खटपट'।
 खटपाटी—(हि. स्त्री.) खटिये की पाटी।
 खटपूरा—(हि. पुं.) ढेले तोड़ने की मुंगरी।
 खटवना—(हि. पुं.) चारपाई बाननेवाला।
 खटमल—(हि. पुं.) एक चिपटा कीड़ा जो ग्राट श्ल्यादि में उत्पन्न हो जाता है, (गहूँ मनुष्यों का रक्त नूनता है।)
 खटमिट्ठा—(हि. वि.) मधुराम्ल, खटाई और मिठाई दोनों स्वादवाला।

खटमुख—(हि. पुं.) देखें 'पण्मुख'।
 खटराग—(हि. पुं.) व्यर्थ की वस्तुएँ, झगड़ा, झंझट, सामग्री।
 खटला—(हि. पुं.) स्त्रियों के कान में वाली पहिनने का छिद्र, आश्रम।
 खटाई—(हि. स्त्री.) अम्लता, खट्टापन, खट्टी वस्तु, वैरभाव, अनयन; (मुहा.)—में डालना—बना-बनाया काम विगाड़ देना।
 खटाका—(हि. पुं.) खट का शब्द; (अव्य.) खट से।
 खटाखट—(हि. स्त्री.) ठोंकने-पीटने का निरन्तर शब्द; (अव्य.) खटखट करके, झटपट, जल्दी से, बिना रुकावट के।
 खटाना—(हि. क्रि. अ., स.) खट्टा पड़ना, खटाई आना, निमना, टिकना, लगा रहना, काम लेना, विगड़ना, ठहरना, निर्वाह होना, जाँच करने पर पूरा उतरना।
 खटापट, खटापटी—(हि. स्त्री.) खटपट।
 खटाल—(हि. पुं.) समुद्र की ऊँची लहर, गाय-भैस का गिरोह या रहने का अड़्डा।
 खटाव—(हि. पुं.) निर्वाह, नाव बाँधने का खूँटा।
 खटास—(हि. स्त्री.) खटाई; खट्टापन, गन्ध-चिलाव, अनयन, वैरभाव, विगाड़।
 खटिक—(हि. पुं.) (स्त्री. खटकिन) एक नीच हिन्दू जाति, (ये लोग प्रायः फल और तरकारी बेचते हैं।)
 खटिका—(सं. स्त्री.) खड़िया मिट्टी, छोटा खटोला।
 खटिया—(हि. स्त्री.) चारपाई, छोटी खाट, खटोला।
 खटी—(सं. स्त्री.) खड़िया।
 खटोलना, खटोला—(हि. पुं.) छोटी चारपाई या खटिया।
 खटून—(सं. वि.) छोटा, नाटा, बीना।
 खट्टा—(हि. वि.) अम्ल, जिसमें खटाई हो; (पुं.) नीवू की जाति का एक खट्टा फल, गलगल; (मुहा.) जो खट्टा हो जाना—चित्त अप्रसन्न होना; —चूक—(वि.) स्वाद में बहुत खट्टा; —मीठा—(वि.) कुछ खट्टा कुछ मीठा।
 खट्ट—(हि. वि.) काम में लगा रहनेवाला, खटनेवाला।
 खटवांग—(सं. पुं.) खटिये का पाया या पाटी, शिव का एक अस्त्र, प्रायश्चित्त करनेवाले का भिक्षा माँगने का पात्र।
 खट्टा—(हि. पुं.) इंटों की खट्टी जोड़ाई जो भूमि पर की जाती है, कई प्रकार के मोटे अन्नों का मिश्रण।

खड़—(सं. पुं.) तृण, खर, कतवार, एक ऋषि का नाम।
 खड़क—(हि. स्त्री.) खटक, घीमा शब्द।
 खड़कना—(हि. क्रि. अ.) खड़खड़ होना, खटकना।
 खड़का—(हि. पुं.) देखें 'खटका'।
 खड़काना—(हि. क्रि. स.) खटकाना, लड़ाना, बजाना।
 खड़खड़ा—(हि. पुं.) पक्षियों को उड़ाने का वाँस का ढाँचा; (वि.) खड़खड़ करनेवाला।
 खड़खड़ाना—(हि. क्रि. अ., स.) खड़खड़ शब्द होना या करना, दो वस्तुओं का परस्पर टकराना।
 खड़खड़ाहट—(हि. स्त्री.) खड़खड़ाने का शब्द, खटपट।
 खड़खड़िया—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की पालकी, पीनस।
 खड़ग—(हि. पुं.) देखें 'खड़ग'।
 खड़गी—(हि. वि.) तलवार लिये हुए; (पुं.) गैड़ा।
 खड़जी—(हि. पुं.) देखें 'खड़गी'।
 खड़वड़—(हि. स्त्री.) खटपट, उत्तेजना, चहल-पहल, गड़बड़, उलट-फेर।
 खड़वड़ाना—(हि. क्रि. अ., स.) व्याकुल होना, घबड़ाना, विगड़ना, उलट-पलट होना, क्रम टूटना, खटकाना, खड़खड़ाना, क्रम विगाड़ना, घबड़ाहट में डालना।
 खड़वड़ाहट—(हि. स्त्री.) देख 'खड़वड़ी'।
 खड़वड़ी—(हि. स्त्री.) व्यतिक्रम, खड़वड़, घबड़ाहट, हलचल, खलवली।
 खड़विड़ा—(हि. वि.) ऊँचा-नीचा, जो समतल न हो।
 खड़वीहड़—(हि. वि.) देखें 'खड़विड़ा'।
 खड़मंडल—(हि. पुं.) व्यतिक्रम, गड़बड़, गोलमाल।
 खड़ा—(हि. वि.) सीधा उठा हुआ, स्थिर, टिका हुआ, प्रस्तुत, प्रचलित, तैयार, स्थापित, रखवा हुआ, उपस्थित, कच्चा, पूरा, समूचा, अचल, जो टूटा न हो, दण्डायमान, उद्यत, निर्मित, बनाया हुआ; —खेत—(पुं.) फसल या अनाज लगा हुआ खेत; (मुहा.)—करना—तैयार करना, बनाना, ढाँचा खड़ा करना; —होना—तैयार होना, बनना, चुनाव में उम्मेदवार होना।
 खड़ाऊँ—(हि. पुं.) पादुका, काठ के तल्ले का बिना एड़ी और पंजे का जूता।
 खड़ाफा—(हि. पुं.) खटाका, खड़खड़ाहट; (अव्य.) जल्दी से।
 खड़िका—(सं. स्त्री.) खड़िया मिट्टी।

खड़िया—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की ध्वेत मिट्टी, खरिया।
खड़ी—(हि. स्त्री.) खड़िया मिट्टी।
खड़ी बोली—(हि. स्त्री.) पश्चिमी हिन्दी जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है और जिस भाषा में आधुनिक गद्य लिखा जाता है।
खड़ा—(हि. पुं.) हाथ या पैर में पहनने का चूड़ा।
खड़े-खड़े, खड़ेघाट—(हि.अव्य.) झटपट, वृत्त।
खड़ा—(सं. पुं.) गैडा, नंडे का सींग, एक प्रकार की तलवार, पशुओं की बलि चढ़ाने का खाँड़ा; -पत्र—(पुं.) तलवार के सदृश पत्तियों की एक लता, तलवार की धार; -पाणि—(वि.) हाथ में तलवार लिये हुए; -पुत्रिका—(स्त्री.) कटार, छुरी; -मुद्रा—(स्त्री.) एक तन्त्रोक्त मुद्रा का नाम।
खड़गी—(सं. पुं.) गैडा, महादेव; (वि.) खड़गवारी, जिसके पास खड़ग हो।
खड़ड—(हि. पुं.) खात, गड़ढा।
खड़डा—(हि. पुं.) खात, गड़डा, शरीर में अधिक खड़ से बना हुआ चिह्न।
खणक—(हि. पुं.) मूपक, चूहा।
खतना—(अ. पुं.) मुसलमानों करने का रस्म या संस्कार, मुघत।
खतम—(हि. वि.) समाप्त।
खतरनाक—(हि. वि.) खतरे से भरा हुआ, जोखिम में पूर्ण।
खतरा—(अ. पुं.) डर, नय, जोखिम।
खतरानी—(हि.स्त्री.) खत्री जाति की स्त्री।
खतरैदा—(हि. पुं.) खत्री जाति का युवा पुरुष।
खतियाना—(हि.क्रि.न.) प्रतिदिन के धाव्य-व्यय या भ्रय-विभ्रय के हिसाबों को अलग-अलग लिखना।
खतियोनि—(हि. स्त्री.) राता, वह बही जिसमें हिनाय गनिगकर लिया गया हो, पदवारी की वह बही जिसमें हर एक कृपक की भूमि का क्षेत्रफल तथा गन्ना लिखा जाता है।
खता—(हि. पुं.) गर्द, गड़डा, अन्न खाने का गड़मा।
खती—(हि. स्त्री.) देगे 'गपती'।
खत्री—(हि. पुं.) मिट्टियों की एक जाति के लोग जो अपने की शक्ति काते हैं।
खट्टदाना—(हि. क्रि. अ.) डरना, करना।
खट्टा—(हि. पुं.) गड़मा, गंदा; (वि.) खट्टे का।

खदान—(हि. स्त्री.) किसी वस्तु को खोदकर निकालने के लिये बना हुआ गड़डा, खान।
खदिर—(सं. पुं.) खैर का वृक्ष, कल्या, चन्द्रमा, इन्द्र, एक ऋषि का नाम।
खदिरपत्री—(सं.स्त्री.) खानखती का पाँवा।
खदिरसार—(सं. पुं.) खैर, कल्या।
खदुका—(हि. पुं.) कृपण लेकर व्यापार करनेवाला, ऋणग्रस्त व्यापारी।
खदुहा—(हि. पुं.) खोटा मनुष्य।
खदेड़ना—(हि. क्रि. स.) भगाना, हटाना, पीछे पड़ना।
खदेरना—(हि. क्रि. स.) खदेड़ना।
खदड़, खदर—(हि. पुं.) हाथ के कले हुए तूत का बिना हुआ कपड़ा, खादी, गजी, गाढ़ा।
खद्योत—(सं.पुं.) जुगनू नामक कीड़ा, सूर्य।
खद्योतक, खद्योतन—(सं. पुं.) सूर्य।
खन—(हि. पुं.) क्षण, खण्ड, (घर का) तल्ला, रुपये का शब्द।
खनक—(सं. पुं.) भूसा, चूहा, सेंध लगाने-वाला चोर, खान या भूमि खोदनेवाला; (हि.पुं.) रुपये के बजने का शब्द।
खनकना—(हि. क्रि. अ.) खनखन करना, धातु के टुकड़े का बजना।
खनकाना—(हि. क्रि. स.) खनखन करना, इस प्रकार बजाना।
खनकार—(हि.पुं.) खनखन करने का शब्द।
खनखना—(हि.वि.) खनखन शब्द करने-वाला।
खनखनाना—(हि.क्रि.अ.) खनखन शब्द होना, इस प्रकार बजना।
खनना—(हि. क्रि. स.) खोदना, गड़ना, कोड़ना।
खनतीय—(सं. वि.) खोदे जाने योग्य।
खनवाना, खनाना—(हि. क्रि. स.) खनने का काम दूसरे से कराना।
खनि—(सं. स्त्री.) गड़टा, मोने इत्यादि की ग्यान।
खनिज—(सं. वि.) ग्यान में उल्लस, ग्यान में निकाला हुआ।
खनित्र—(सं.पुं.) खोदने का यंत्र, गंगा, गैनी।
खनिहाना—(हि. क्रि. स.) गाली करना, उखिलना।
खन्न—(हि. पुं.) खनखन का शब्द; -अन्न करना-अन्नगाना।
खन्ना—(हि.पुं.) खड़िया खाने का यंत्र।
खपची, खपची—(हि. स्त्री.) खनि की खानी कीनी खनि की खानी की।

खपटा—(हि. वि.) बूड़, दुग्धा, पुरग, दुबला-पतला; (पुं.) खपड़ा।
खपटी—(हि. स्त्री.) छोटा खपड़ा।
खपड़ा—(हि.पुं.) मिट्टी का गटा और पतला हुआ टुकड़ा जो मकान खाने के काम में आता है, भिखनंगों का भीख माँगने का पात्र, खपपर, टिकड़ा, दूँटे हुए मिट्टी के पात्र का टुकड़ा, कछुए का पाँव का भाग, इनका बना हुआ टपना।
खपड़ी—(हि. स्त्री.) भड़भूँजे की गाँठ, खोपड़ी।
खपड़ल—(हि. स्त्री.) खपड़े की छत या छाजन, गपड़ल।
खपत, खपती—(हि.स्त्री.) गमार्द, विषय, माल की बिची।
खपना—(हि.क्रि.अ.) लगाना, व्यय होना, चलना, निकलना, दिक्ता, कटना, काम में आना, निभना, मरना, मिटना।
खपरा—(हि. पुं.) देव 'गपड़ा'।
खपरिया—(हि.स्त्री.) खारी, नूरे रंग का एक मजिज पदार्थ, छोटा गपड़ा, खने की उपज को नष्ट करनेवाला एक कीड़ा।
खपरल—(हि.स्त्री.) गपड़े में धाँस हुई छत, खपड़ल।
खपाची—(हि. स्त्री.) देगे 'गपची'।
खपाट—(हि. स्त्री.) धोकी के भीतर के छोटे दूँटे।
खपाना—(हि.क्रि.अ.) व्यय करना, निर्मा काम में खाना, निर्माह करना; (गुहा.) माया गपाना—भोक्ते-भोक्ते व्यय होना।
खपुआ—(हि. वि.) भीर, भयभीत, खप-पाक।
खपुर—(सं.पुं.) गणवर्धनगर, गुपारी, खप-गना, खपगुन, आतामसी, खपगुन, राधा हरिचन्द्र की आकाशमयि नखरी।
खपुख—(सं.पुं.) आतामसी गुन, खप-गान।
खपड़—(हि. पुं.) देगे 'गपड़'।
खपपर—(हि. पुं.) खपने के उपकरण का मिट्टी का पात्र, भीख माँगने का पात्र, खोपड़ी।
खपा—(सं. वि.) खप, खपखप।
खपची—(अ. स्त्री.) खपची के सौंटे-सौंटे भागों का खपखप का खप-पा, खपपा।
खपच—(अ. स्त्री.) खपच, खपच, खपच, खपच, खपच, खपच; (गुहा.)-खपच-खपची, खपची का खपखप खपच का खपच-खपच-प्रतिखपची खपच का खपच का खपच।

सहायता या मदद देना ।

खवरदार—(फा. वि.) होशियार, सजग ।

खवरवारी—(फा.स्त्री.) सावधानी, होशियारी ।

खवत—(अ. पुं.) झक्क, सनक, धुन ।

खवती—(अ. वि.) सनकी, झक्की ।

खभरना—(हि. क्रि. स.) मिश्रित करना, मिलाना, उलट-पुलट करना, क्रम विगाड़ना ।

खभरना—(हि. वि.) व्यभिचारिणी स्त्री से उत्पन्न ।

खमणि—(सं. पुं.) सूर्य, सूरज ।

खमसना—(हि.क्रि.स.) मिलाना, डालना ।

खमीर—(अ. पु.) पानी में भिगोकर या उवाककर देर तक रखे हुए किसी मिश्रण में उत्पन्न होनेवाला खट्टापन और फेन जैसी परत या पपड़ी; (मुहा.) —उठना—किसी मिश्रण का खमीर उत्पन्न होने से उभड़ जाना ।

खमीरा—(अ.वि.,पु.) खमीरवाला, चासनी में बनाया हुआ अवलेह; कटहल आदि का खमीर उतारकर बना हुआ पीने का तंबाकू ।

खमीरी—(अ.वि.,स्त्री.) खमीर वाली (रोटी) ।

खमोश—(हि. वि.) देखे 'खामोश' ।

खम्माच—(हि. पुं.) मालकोस राग की दूसरी रागिनी ।

खय—(हि. पुं.) देखे 'क्षय' ।

खयाल—(हि. पु.) देखे 'ख्याल' ।

खरंजा—(हि.पुं.) देखे 'खड़ंजा' ।

खर—(सं. पुं.) गर्दभ, गदहा, खच्चर, रावण के भाई का नाम, कौआ, पश्चिम मुंह के द्वार का घर, संवत्सरों में से एक, छप्पय छंद का एक भेद; (वि.) करारा, कठिन, कड़ा, तीक्ष्ण, हानिकारक, निष्ठुर, निर्दय, अमांगलिक ।

खरक—(हि. पु.) पशुओं को बन्द करने का वाड़ा, टट्टर, घेरा, बाँस की पट्टियों से बना हुआ किवाड़ ।

खरकना—(हि.क्रि.अ.) दुरखुराना, दुखाना, पीडा होना, सरकना, चले जाना, काँटा चुभ जाने पर पीड़ा होना ।

खरका—(हि. पुं.) सीक या लकड़ी का पतला छोटा टुकड़ा, तिनका; (मुहा.)

—करना—भोजन करने के बाद दाँतों में से अन्न आदि के कण निकालना ।

खरकोण—(सं. पुं.) तीतर पक्षी ।

खरकोमल—(सं.पु.) जेठ का महीना ।

खरखरा—(हि.वि.) खुरदरा, जो चिकना न हो ।

खरग—(हि. पुं.) देखे 'खड्ग' ।

खरच—(हि. पु.) व्यय ।

खरचना—(हि.क्रि.स.) व्यय करना, व्यवहार या उपयोग में लाना ।

खरचा—(हि. पुं.) व्यय ।

खरची—(सं. स्त्री.) जीविका-निर्वाह के लिए आवश्यक अन्न, धन आदि, खाने-पीने की वस्तु ।

खरतर—(सं.वि.) अति तीक्ष्ण, बहुत पैना ।

खरतल—(हि. वि.) खरा, स्पष्टवादी ।

खरदला—(सं. स्त्री.) वे-स्वाद गूलर कठगूलर ।

खरदा—(हि. पुं.) अंगूर की पत्तियों को खा जानेवाला एक कीड़ा ।

खरदूषण—(सं. पुं.) खर और दूषण नाम के दो राक्षस जो रावण के भाई थे ।

खरधार—(सं.वि.) तीखी धारवाला (अस्त्र) ।

खर(रा)ना—(हि.क्रि.स.) घी को आँच पर तपाकर परिष्कार करना ।

खरब—(हि.पुं.,वि) सौ अरबों की संख्या, खर्ब ।

खरबूजा—(हि. पुं.) ककड़ी की जाति की एक लता जिसमें गोल मीठे फल गरमी के दिनों में फलते हैं, इसके फल का नाम ।

खरभर—(हि. पुं.) खड़खड़ाहट, कोलाहल, हलचल ।

खरभराना—(हि.क्रि.अ.) हलचल मचाना, धवड़ाना, व्याकुल होना, सामग्रियों को उलट-पुलट करने में शब्द उत्पन्न करना ।

खरभराहट—(हि. स्त्री.) देखे 'खरभर' ।

खरभरी—(हि.स्त्री.) खलवली, उत्तेजना ।

खरमास—(हि. पुं.) देखे 'खरवाँस' ।

खरमिटाव—(हि. पुं.) प्रातराश, कलेवा, जलपान ।

खरल—(हि. पुं.) औषध इत्यादि घोंटने की पत्थर या लोहे की कुंडी ।

खरवट—(हि. स्त्री.) लोहारों का रेतने का एक यन्त्र ।

खरवाँस—(हि.पुं.) मास जो सूर्य के घनु और मीन राशि पूर आने से होता है ।

खरशब्द—(सं. पुं.) गदहे का रेंकना, कर्कश शब्द ।

खरसा—(हि. पुं.) गरमी की ऋतु, दुभिक्ष, खुजली, एक प्रकार का पक्वान्न ।

खरसान—(हि. स्त्री.) तलवार इत्यादि पैनी करने का एक प्रकार का सान ।

खरसुमा—(हि. वि.) ऊपर उठे हुए सुमों का घोड़ा ।

खरहर—(हि. पुं.) कूड़ा-करकट फेंकने का स्थान ।

खरहरा—(हि. पुं.) मेहतारों की झाड़,

एक दाँतदार कंभी जिससे बड़े के रोंयें स्वच्छ किये जाते हैं ।

खरहा—(हि. पुं.) शशक ।

खरांशु—(सं. पु.) सूर्य, सूरज ।

खरा—(हि. वि.) तीक्ष्ण, तीखा, विशुद्ध, कुरकुरा, अच्छी तरह पका हुआ, कड़ा, कठिन, बढ़िया, करारा, विना मिलावट का, चीमड़, निश्चल, स्पष्ट कहनेवाला, सच्चा, अधिक; (मुहा.) रुपये खरे होना—रुपयों का हाथ लगना, लाभ होना ।

खराई—(हि. स्त्री.) खरापन, करारापन, प्रातःकाल देर तक कुछ भोजन न करने से अस्वस्थ होना (पित्त विगड़ना) ।

खराद—(हि. पुं.) गोलाई में घूमनेवाला एक यन्त्र जिस पर चढ़ाकर काठ या धातु की वस्तुएँ सुडौल और चिकनी बनाई जाती हैं, खरादन का काम, गढ़न, वनावट ।

खरादना—(हि.क्रि.स.) खराद पर चढ़ाकर चिकनाना और सुडौल बनाना ।

खरादी—(हि. पुं.) खरादनेवाला ।

खरापन—(हि. पुं.) सचाई, सत्यता ।

खराब—(अ. वि.) बुरा, अशुभ, अहितकर, हीन, हानिकारक ।

खराबी—(अ. स्त्री.) बुराई, दोष, अवगुण, तवाही ।

खरायेंध—(हि. स्त्री.) मूत्र या क्षार के समान दुर्गन्ध ।

खरारि—(सं. पुं.) श्रीरामचन्द्र, विष्णु ।

खरिक—(हि. पु.) एक प्रकार की ऊख ।

खरिया—(हि. स्त्री.) पतली रस्सी का बना हुआ जाल, पांसी, झोली, कण्डे की राख, खड़िया मिट्टी ।

खरियाना—(हि. क्रि. स.) झोली या थैली में भरना, अपने अधिकार में ले लेना, थैली या झोली में से गिराना ।

खरिहान—(हि. पुं.) कटे हुए अनाज का ढेर, इन्हें रखने का स्थान ।

खरी—(हि. स्त्री.) खली, खड़िया मिट्टी; (वि.स्त्री.) खूब सेकी हुई, विशुद्ध, स्पष्ट ।

खरीद—(फा. स्त्री.) खरीदने की क्रिया या भाव ।

खरीदना—(हि. क्रि. स.) मोल लेना, क्रय करना ।

खरीदार—(फा. वि.) खरीदनेवाला ।

खरीदारी—(फा.स्त्री.) खरीदने की क्रिया ।

खरीफ—(अ. स्त्री.) धान, मकई, बाजरे आदि की फसल जो अषाढ़-सावन में बोई और अगहन में काटी जाती है ।

खरेठ—(हि. पुं.) एक प्रकार का अग-

हनियाँ धान ।
 खरोंच-(हि. स्त्री.) छिल जाने या रगड़ का चिह्न, एक प्रकार की पकीड़ी ।
 खरोंचना-(हि. क्रि.स.) छीलना, खुरचना, वेग से खुजलाना ।
 खरोंचा-(हि.पुं.) खरोंच, गहरी रगड़ ।
 खरोष्ठी, खरोष्ठी-(सं. स्त्री.) फारसी की तरह लिखी जानेवाली एक लिपि जो अशोक के समय में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में चलती थी ।
 खरौंट-(हि. स्त्री.) देखें 'खरोंच' ।
 खरौहा-(हि. वि.) खारा, थोड़ा नमकीन ।
 खर्च-(फा. पुं.) देखें 'खरच' ।
 खर्चना-(हि. क्रि.स.) व्यय करना ।
 खर्चा-(हि. पुं.) देखें 'खर्च' ।
 खर्ची-(हि. स्त्री.) खरची, शुल्क, पारिश्रमिक ।
 खर्चीला-(हि. वि.) अधिक व्यय करनेवाला ।
 खर्जू (जू) र-(सं. पुं.) खजूर का वृक्ष या फल, बिच्छू ।
 खर्पर-(सं. पुं.) भिक्षा माँगने का खपपड़, मिट्टी के बरतन का टूटा हुआ भाग, कपाल, खोपड़ा, छत, छाता, तृतिषा, खपड़िया नामक उपधातु ।
 खर्व-(सं. पुं.) कुबेर की निधि, सौ अरब की संख्या; (वि.) छोटा, न्यून अंग का, वामन, बौना, खर्व ।
 खर्वित-(सं. वि.) ह्रस्व, कटा हुआ ।
 खर्वा-(हि. पुं.) लम्बा चिट्ठा, वह लम्बा कागज जिसमें बहुत-सा हिसाब लिखा हो, पीठ पर छोटी-छोटी फुंसियों के निकलने का रोग ।
 खर्वाच-(हि. पुं.) अमितव्ययी ।
 खर्वाटा-(हि. पुं.) निद्रा की अवस्था में नाक से निकलनेवाला शब्द; (मुहा.) -भरना, मारना या लेना-घोर निद्रा में सो जाना ।
 खर्व-(सं. वि., पुं.) विकृतांग, ठिगना, छोटा, सौ अरब (की संख्या) ।
 खर्वित-(सं. वि.) विकृतांग बना या किया हुआ, छोटा किया हुआ ।
 खल-(सं. पुं.) खलिहान, घूल का ढेर, भूमि, स्थान, सूर्य, तमाल वृक्ष, औषध घोटने का पात्र, घतुरे का पीघा; (वि.) नीच, दुष्ट, अवम, दुर्जन, क्रूर ।
 खल-खल-(हि. पुं.) बीतल आदि में से पानी उड़ेलने से होनेवाला शब्द ।
 खलखलाना-(हि. क्रि. अ.) उबलना, खीलना, सुदृढ़ाना, खगारना ।
 खलड़ी-(हि. स्त्री.) दन्धा, धाल, चमड़ा ।
 खलता-(सं. स्त्री.) दुष्टता, दुर्जनता ।

खलवान्य-(सं. पुं.) देखें 'खलिहान' ।
 खलना-(हि. क्रि. अ.) चुभना, मुड़ना, झुकना, बुरा लगना, अप्रिय जान पड़ना ।
 खलनी-(हि. स्त्री.) सीनार का पीला करने का अस्त्र ।
 खलबल, खलभल-(हि. पुं.) हलचल, गड़बड़ी, कौलाहल, कुलबुलाहट, हल्ला, उवाल ।
 खलबलाना, खलभलाना-(हि. क्रि. अ.) उबलना, खीलना, खदवदाना, धवड़ाना, विचलित होना, चलना-फिरना ।
 खलबलाहट, खलभलाहट-(हि. स्त्री.) खलबल होने का शब्द ।
 खलबली, खलभली-(हि. स्त्री.) व्यग्रता, हलचल, व्याकुलता, धवड़ाहट, उवाल ।
 खलल-(अ. पुं.) वाधा, अड़चन, रोक; -दिमाग-(वि.) विगड़ा दिमागवाला, सनकी, बद-दिमागी ।
 खलस्ता-(हि. पुं.) एक प्रकार की मछली ।
 खलाई-(हि. स्त्री.) दुष्टता ।
 खलाना-(हि. क्रि. स.) खाली करना, खोदना, गड़वा करना, फले हुए भाग को नीचे की ओर दवाना ।
 खलार-(हि. वि., पुं.) गहरा (स्थान), नीचा, खाली ।
 खलासी-(हि. पुं.) गाड़ी के इंजन के अग्नि-भट्टे में आग झोकनेवाला मजदूर ।
 खलित-(हि. वि.) चंचल, चलायमान ।
 खलिया (हा) न-(हि. पुं.) अन्न काटकर रखने का स्थान, खरिहान, राशि, ढेर ।
 खलियाना-(हि. क्रि.स.) खाल खींचना, चमड़ा उतारना, खाली करना ।
 खली-(हि. स्त्री.) तेल निकलने पर बची हुई सीठी ।
 खलीता-(हि. पुं.) खरीता, जेव ।
 खलीफा-(अ. पुं.) हजरत मुहम्मद का उत्तराधिकारी शासक, बूढ़ा दरजी, नाई आदि, उस्ताद का संगी या सहायक, वावर्ची ।
 खलु-खलु-(सं. अव्य.) नहीं, शब्दालंकार में निश्चय, अब, इस समय । (यह शब्द पाद-पूरण करने के लिये भी व्यवहृत होता है ।)
 खल्ले-(हि. पुं.) तेल में मिली हुई खली ।
 खल्ल-(सं. पुं.) गड़वा, चमड़ा, मसक ।
 खल्लकी-(सं. स्त्री.) शक्कर, खाड़ ।
 खल्लड़-(हि. पुं.) वह पुरुष जिसकी खाल लटक गई हो ।
 खल्ला-(हि. पुं.) खलिहान, जूता, नाचने की एक चाल ।

खल्व-(सं. पुं.) सिर के बाल झड़ने का रोग, गंजापन ।
 खल्वट-(हि. पुं.) गंजा; (वि.) जिसके सिर के बाल झड़ गये हों ।
 खवा-(हि. पुं.) स्कन्ध, कन्वा ।
 खवाई-(हि. स्त्री.) खाने-पीने का काम, नाव में मस्तूल गाड़ने का गड़वा ।
 खवाना-(हि. क्रि. स.) खिलाना, भोजन कराना ।
 खवैया-(हि. पुं.) भोजन करनेवाला, खानेवाला ।
 खशा-(सं. स्त्री.) दक्ष की कन्या, कश्यप की पत्नी ।
 खश्वास-(सं. पुं.) वायु, हवा ।
 खस-(फा. स्त्री.) एक घास की प्रसिद्ध सुगंधित जड़ ।
 खसकंत-(हि. पुं.) खिसकने या भाग जाने का कार्य; (वि.) खसक जानेवाला ।
 खसकना-(हि. क्रि. अ.) सरकना, हटना, जगह छोड़ देना, चुपके से भाग जाना ।
 खसकाना-(हि. क्रि.स.) सरकाना, हटाना, चुपके से निकाल देना, खसकने का काम कराना ।
 खसखस-(हि. वि.) भुरभुरा, सहज में चूर होनेवाला, बहुत ही छोटा; (पुं.) पोस्ते का दाना ।
 खसखास-(हि. पुं.) देखें 'खसखस' ।
 खसखासी-(हि. वि.) खसखस (पोस्ते) के फूल के समान रंग का, नीलापन लिये हुए श्वेत ।
 खसना-(हि. क्रि. अ.) सरकना, अपने आप नीचे को हट जाना ।
 खसरा-(हि. पुं.) एक प्रकार की गौली खुजली; पटवारी के भूमिधरों की काशतों को क्रमवद्ध क्षेत्र संख्यावाली वही, क्षेत्र-फल आदि के विवरण का लेखा या वही ।
 खसाना-(हि. क्रि.स.) खिसकाना, गिराना, नीचे की ओर धक्का देना ।
 खसिया-(हि. वि.) बधिया, खस्ती, आसाम प्रान्तवासी, नपुंसक; (पुं.) छाग, बकरा ।
 खसियाना-(हि. क्रि.स.) बधिया करना, नपुंसक बनाना ।
 खसी-(हि. पुं.) बकरा ।
 खसोट, खसोटो-(हि. स्त्री.) बुरी तरह से नोचना, शटके से तोड़ना, शपट ।
 खसोटना-(हि. क्रि.स.) नोचना, उप्पाड़ना, बलपूर्वक तोच लेना, छीन लेना ।
 खस्ता-(फा. वि., पुं.) जरा सा दधाने पर चूर हो जानेवाला, नैवे में मेहनत डालकर बना पकवान ।

ख-स्वस्तिक-(सं. पुं.) शीर्षविन्दु, वह कल्पित विन्दु जो आकाश में सिर के ठीक ऊपर पड़ता है।
 खस्ती-(हिं.पुं.) वकरा; (वि.) बधिया, नपुंसक।
 खहर-(सं. पुं.) गणित में वह संख्या जिसका हर शून्य हो; यथा- $\frac{1}{0}$ ।
 खाँ-(फा. पुं.) किसी जाति का नायक या सरदार, पठानों के नाम के पहले लगनेवाला उपनाम।
 खाईं-(हिं. स्त्री.) किसी स्थान के चारों ओर खोदा हुआ गड्ढा, खाई।
 खाँख-(हिं. स्त्री.) छिद्र, छेद, पोलापन।
 खाँखर-(हिं. वि.) छिद्रयुक्त, दूर-दूर बीना हुआ, पोला, रिक्त, खोखला; (स्त्री.) कूप बनाने के लिये गड्ढा।
 खाँग-(हिं. पुं.) काँटा, तीतर आदि के पैर का काँटे के समान नाखून, गैड़े का सींग, जंगली सूअर का बड़ा दाँत, त्रुटि, अभाव, कमी।
 खाँगड़, खाँगड़ा-(हिं. वि.) खाँग रखनेवाला, सशस्त्र, उद्दण्ड, बलवान्, अक्खड़।
 खाँगना-(हिं. क्रि. अ.) लँगड़ाना, घटना, वेग से बोलना।
 खाँगी-(हिं. स्त्री.) त्रुटि, न्यूनता, कमी, घटी।
 खाँच-(हिं. पुं.) कीचड़।
 खाँचना-(हिं. क्रि. स.) चिह्न बनाना, अंकित करना, खींचना, शीघ्रता से लिखना।
 खाँचा-(हिं. पुं.) झावा, बड़ा टोकरा, बड़ा पिजड़ा।
 खाँड़-(हिं. स्त्री.) कच्ची शक्कर।
 खाँड़ना-(हिं. क्रि. स.) कूँचना, तोड़ना, चवाना।
 खाँड़ा-(हिं. पुं.) खड्ग, तलवार, छुरा, खण्ड, टुकड़ा।
 खाँभ-(हिं. पुं.) स्तम्भ, खंभा।
 खाँभना-(हिं. क्रि. स.) लिफाफे में बन्द करना।
 खाँवाँ-(हिं. पुं.) गहरी लंबी खाई, खेत की चौड़ी मेड़।
 खाँसना-(हिं. क्रि. अ.) गले में अटके हुए कफ या दूसरी वस्तु को निकालने के लिये हवा को शब्द के साथ बाहर फेंकना, खखारना, खींखना।
 खाँसी-(हिं. स्त्री.) खाँसने का रोग या शब्द, कास रोग।
 खाईं-(हिं. स्त्री.) दुर्ग आदि की रक्षा के लिये उसके चारों ओर खोदा हुआ गड्ढा, खन्दक।

खाऊ-(हिं. वि.) अधिक खानेवाला, मरभूखा, पेटू।
 खाक-(फा. स्त्री.) राख, धूल, मिट्टी; (मुहा.)-करना-जलाकर राख या भस्मावशेष बना देना;-चाटना-धूल चाटना; -छानना-मारा-मारा घूमना-फिरना; -में मिलना-मर जाना, नष्ट हो जाना।
 खाका-(फा. पुं.) नक्शा, मानचित्र।
 खाकी-(फा. वि.) मिट्टी के रंग का, भूरा।
 खागना-(हिं. क्रि. अ.) खाँगना, चुभना, गड़ना।
 खाज-(हिं. स्त्री.) शरीर के भिन्न भागों में खुजली होना, खुजली।
 खाजा-(हिं. पुं.) खाद्य, एक प्रकार की मिठाई।
 खाजी-(हिं. स्त्री.) भोजन का पदार्थ।
 खाट-(सं. पुं.) चारपाई, खटिया, खटोला, पलंग।
 खाड़-(हिं. पुं.) गर्त, गड्ढा।
 खाड़व-(हिं. पुं.) देखें 'पाड़व'।
 खाड़ी-(हिं. स्त्री.) आघात, तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ समुद्र का भाग।
 खात-(सं. पुं.) खोदना, खोदाई, पुष्करिणी, तालाब, कुआँ, गर्त, गड्ढा; (हिं. स्त्री.) महुवे का ढेर, खाद; (वि.) खोदा हुआ, मैला।
 खाता-(हिं. पुं.) बड़ी खती, हिसाब-किताब की बही, अन्न रखने का गड्ढा, मद, विभाग; (मुहा.)-खोलना-नया व्यवहार किसी से आरम्भ करना।
 खाति-(सं. स्त्री.) खोदाई, खोदने का काम।
 खातिर-(अ. स्त्री.) आदर, सम्मान; (अव्य.) के लिये, वास्ते।
 खातिरदार-(हिं. पुं.) आदर करनेवाला।
 खातिरदारी-(अ. स्त्री.) खातिर।
 खातिरन-(अ. अव्य.) के खातिर।
 खातिरी-(हिं. स्त्री.) खातिरदारी।
 खाती-(हिं. स्त्री.) खती, गड्ढा, खोदी हुई भूमि, भूमि खोदनेवाली एक जाति, बड़ई।
 खाद-(हिं. स्त्री.) उपज बढ़ाने के लिये खेतों में डाली हुई वस्तु, पौंस, पौधों की उपज बढ़ानेवाली वस्तु।
 खादक-(सं. वि.) भक्षक, खानेवाला, ऋण लेनेवाला।
 खादन-(सं. पुं.) दाँत, आहार, भोजन।
 खादनीय-(सं. वि.) भोजनीय, खाया जानेवाला।

खादर-(हिं. पुं.) नीची भूमि जिस पर पानी बहुत दिनों तक ठहरता है, कछार, चरागाह, तराई।
 खादित-(सं. वि.) भक्षित, खाया हुआ।
 खादिर-(सं. वि.) खदिर से उत्पन्न।
 खादी-(सं. वि.) भक्षक, खानेवाला, शत्रुओं की हिंसा करनेवाला; (हिं. स्त्री.) एक प्रकार का हाथ का बुना मोटा कपड़ा, गजी, खदर; (हिं. वि.) दूषित।
 खादुक-(सं. वि.) हिसालु, जिसकी प्रवृत्ति सदा मारकाट करने की हो।
 खाद्य-(सं. वि.) भक्षणीय, खाया जानेवाला; (पुं.) आहार, खाने की वस्तु।
 खाद्य-(हिं. पुं.) भोजन का पदार्थ।
 खान-(हिं. पुं.) भोजन, खाना, खाने की क्रिया, भोजन की सामग्री; (स्त्री.) खनन, खोदाई, मार-काट, आकर, जिस स्थान को खोदकर पत्थर, धातु इत्यादि निकाली जाती है, खदन, कोल्हू का वह भाग जिसमें तेलहन डालकर तेल निकाला जाता है।
 खानक-(सं. वि.) खनक, खोदनेवाला, राज।
 खानगी-(फा. वि.) घर का, घरेलू, निजी; (स्त्री.) वेश्या, रंडी।
 खानदान-(फा. पुं.) कुल, परिवार।
 खानदानी-(फा. वि.) पँत्रिक, वंशानुगत, ऊँचे कुल का।
 खान-पान-(हिं. पुं.) खाना-पीना, खाने-पीने का व्यवहार या ढंग, संबंध।
 खानसामा-(फा. पुं.) अँगरेजों, मुसलमानों आदि के बड़े घरानों का वावरची।
 खान-(हिं. क्रि. स.) भोजन करना, पेट भरना, मुँह में डालना, मार डालना, काटना, कुतरना, चवाना, बिगाड़ना, उड़ाना, व्यय करना, घूस लेना, अँटना, छोड़ना, मलना, झलना, हड़पना, कष्ट देना, अवर्म से रुपया कमाना, दूर करना, सहन करना; खाता-कमाता-(वि.) केवल पेट भरने के लिये धनोपार्जन करनेवाला; -पीना-(हिं. पुं.) देखें 'खान-पान'; (मुहा.)-कमाना-अपने व्यवसाय में लगे रहना; -न पचना-खाना हजम न होना; खा-पका डालना-सब कुछ व्यय कर देना; कच्चा खा जाना-प्राण ले लेना; खाने दौड़ना-अत्यन्त क्रोध दिखलाना; मुँहकी खाना-हार जाना।
 खाना-(फा. पुं.) सूचियों, तालिकाओं आदि में बने कोष्ठक, रिक्त वर्गाकार

धयवा आयताकार चिह्नित अंश;
-तलाशी-(स्त्री.) पुलिस अधि-
कारियों द्वारा किसी खोई वस्तु, अप-
राधी आदि को अपने कब्ज में लेने
के लिए खोज-पड़ताल; -पुरी-(हि.
स्त्री.) किसी चक्र या सारणी के रिक्त
स्थानों का भराव, मानचित्र इत्यादि में
यथास्थान नाम भरना।
खानावदोश-(फा. वि., पुं.) जिसका
कोई धर, ठौर-ठिकाना न हो, घुमनेकड़
गरीब जाति, कंजड़।
खानि-(हि. स्त्री.) खान, ओर, प्रकार।
खानिक-(सं. पुं.) भीत का गड्ढा, रत्न।
खापट-(हि. स्त्री.) वह भूमि जिसमें रेह
का भाग अधिक रहता है।
खावड़-खूबड़-(हि. वि.) ऊँचा-नीचा,
असमतल।
खाभा-(हि. पुं.) चौड़े मुँह का मिट्टी का पात्र।
खाम-(हि. पुं.) टाँका, जोड़, लिफाफा।
खामखाह-(हि. अव्य.) अपने आप, स्वतः।
खामना-(हि. क्रि. स.) लिफाफे में डालकर
बन्द करना, गीली मिट्टी-या आटे से
किसी पात्र का मुँह बन्द करना।
खामो-(फा. स्त्री.) कमी, त्रुटि, दोष।
खामोश-(फा. वि.) चुप, बँधवान्।
खामोशी-(फा. स्त्री.) चुप्पी, बँध।
खार-(हि. पुं.) क्षार, नमक, सज्जी,
रेह, घूलि, एक प्रकार की झाड़ी;
(फा. पुं.) ढाह, जलन; (मुहा.)
-खाना-स्वभावतः बँध रखना।
खारक-(हि. पुं.) छोहारा।
खारा-(हि. वि.) नमकीन, कड़वा, स्वाद
में बुरा लगनेवाला; (पुं.) एक प्रकार का
घारीदार कपड़ा, घास-भूसा बाँधने का
जाल, बाम तोड़ने का जालीदार थला,
झावा, खाँचा, बड़ा पिण्ड।
खारिक-(सं. पुं.) छोहारे का वृक्ष या फल।
खारिज-(अ. वि.) न्यायालय द्वारा अभि-
योग या मुकदमा रद्द किया हुआ; नाम
आदि काटकर बाहर निकाला गया।
खारी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का नोन;
(वि. स्त्री.) खारा, नमकीन।
खारुआं-(हि. वि., पुं.) एक प्रकार का
लाल रंग जो मोटे कपड़ों के रंगने में
प्रयुक्त होता है, इस रंग में रंगा हुआ
मोटा कपड़ा।
खाल-(हि. स्त्री.) त्वचा, चमड़ा बाधा
चरता, भावी की पीकनी, शव, नीची
भूमि, साड़ी, गहराई, नाला; (मुहा.)
-उपेक्षा या खींचना-बहुत मारना।

खालसा-(हि. वि.) जो एक ही के
अधिकार में हो, सरकारी, राज्य का;
(पुं.) गुरु नानक का चलाया हुआ एक
सिक्ख सम्प्रदाय; (मुहा.)-करना-राज्य
द्वारा अपने अधिकार में किया जाना।
खाला-(हि. वि.) निम्न, नीचा।
खालिस-(अ. वि.) शुद्ध, विशुद्ध, अमिश्रित।
खाली-(अ. वि.) रिक्त, अपूर्ण, जो
भरा न हो, रीता, रिक्त; (मुहा.)
निशाना या चार खाली जाना-तीर-
दाज या बंदूकची का निशाना चूकना;
हार्य खाली होना-हार्य म रूपया-पसा
न होना; -दिन-(पुं.) अशुभ या
अलाभकर दिन; -पेट-(वि.) भूखा;
-हाथ-(पुं.) पास में पैसे न होने
की स्थिति।
खास-(अ. वि.) अपना, निजी, मुख्य,
प्रधान; -कर-(अव्य.) विशेषतः।
खासगी-(हि. वि.) निजी, अपना।
खासा-(हि. वि.) उत्तम, अच्छा, नीरोग,
स्वस्थ, सुन्दर, सुडौल, मध्यम श्रेणी का,
सम्पूर्ण, पूरा, भरपूर, उपयोगी।
खासियत-(अ. स्त्री.) निजी प्रकृति,
स्वभाव, दोष, गुण आदि।
खिगरी-(हि. स्त्री.) मीयन्दार छोटी
पतली नमकीन पुरी, मठरी।
खिचना-(हि. क्रि. अ.) आकषित होना,
घसीटा जाना, निकलना, बाहर होना,
तनना, चढ़ना, महंगा होना, बिगड़ना,
पहुँचना, बन्द होना, रुकना, जाना,
खपना, अर्क निकलना, प्रवृत्त होना,
चुसना, चित्रित होना, प्रेम कम होना,
माल का चलान होना, अच्छा न लगना।
खिचवाना-(हि. क्रि. स.) खींचने का
काम दूसरे से कराना।
खिचाई-(हि. स्त्री.) खींचने की क्रिया,
खींचने का वेतन।
खिचाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'खिचवाना'।
खिचाव-(हि. पुं.) देखें 'खिचाई'।
खिचड़वार-(हि. पुं.) खिचड़ी दान करने
का दिन, मकर संक्रान्ति।
खिचड़ी-(हि. स्त्री.) दाल और चावल
का मेल, दाल और चावल मिलाकर
पकाया हुआ भोजन, विवाह की एक
प्रथा जिसमें ब्राह्मणों को कच्ची स्तौई
खिलाई जाती है, दो मिली हुई वस्तुएँ,
मकर संक्रान्ति; (वि.) मिश्रित, मिला
हुआ; (मुहा.)-पकाना-गुप्त रूप से
कोई मलाह करना; -बोली या भाषा-
(स्त्री.) दो या अधिक भाषाओं का

मिश्रण या ऐसा प्रयोग।
खिचड़-(हि. पुं.) देखें 'खिचड़ी'।
खिजमत-(हि. स्त्री.) देखें 'खिदमत'।
खिजलाना-(हि. क्रि. अ., स.) खीजना,
चिढ़ाना, छेड़ना।
खिजाव-(अ. पुं.) पके वालों को काला
करनेवाला अस्थायी लेप।
खिज-(हि. स्त्री.) देखें 'खीज'।
खिजना-(हि. क्रि. अ.) खीजना, चिढ़ना;
(वि.) चिढ़नेवाला।
खिजाना-(हि. क्रि. स.) चिढ़ाना, तंग करना।
खिड़कना-(हि. क्रि. अ.) खिसकना, सर-
कना, चले जाना।
खिड़काना-(हि. क्रि. स.) हटाना, टालना।
खिड़की-(हि. स्त्री.) छटा गुप्तद्वार,
झरोखा; -दार-(वि.) जिसमें खिड़की
या खिड़कियाँ हों।
खिताव-(अ. पुं.) पदवी, उपाधि।
खिताबी-(फा. वि.) खिताब-संबंधी।
खिदमत-(फा. स्त्री.) सम्मान, सेवा,
आवभगत।
खिदमतगार-(फा. पुं.) खिदमत या
सेवा करनेवाला नाँकर।
खिदमती-(फा. वि.) खिदमत करने-
वाला, सेवक।
खिन्न-(सं. वि.) उदासीन, खेदयुक्त,
अप्रसन्न, चिन्तित, असहाय।
खिपना-(हि. क्रि. अ.) लीन होना, खपना।
खियाना-(हि. क्रि. अ., स.) धिस जाना, रगड़
खाना, मिटना, खिलाना, भोजन कराना।
खिरनी-(हि. स्त्री.) क्षीरिणी वृक्ष, एक
ऊँचा वृक्ष जिसके निमकांडों के समान
फल खाये जाते हैं।
खिरंदी-(हि. स्त्री.) बरियारा, बीजवन्ध।
खिलकौरी-(हि. स्त्री.) खेल-कूद, खिलवाड़।
खिलखिलाना-(हि. क्रि. अ.) अट्टहास
करना, सपावद हँसना।
खिलजी-(पुं.) पठानों का एक राजवंश
जिसने १२वीं से १४वीं शताब्दी तक
भारतवर्ष पर शासन किया था;
-वंश-(पुं.) खिलजी राजवंश।
खिलना-(हि. क्रि. अ.) फूलना, कड़ी की
पेटुड़ियाँ खुलना, विगलित होना, अच्छा
लगना, शोभित होना, उन्नत जान
पड़ना, अलग-अलग होना, बीच से फटना।
खिलवाड़-(हि. पुं.) हँसी-मेल, ठट्ठा।
खिलवाना-(हि. क्रि. स.) भोजन कराना,
माना दिलवाना, प्रसन्न करना, अच्छी
तन्त्र भूना।
खिलाई-(हि. स्त्री.) भोजन-क्रिया

खाना-पीना, खिलाने की क्रिया, वच्चों को खेलातेवाली दाई।
 खिलाड़ी-(हि. पुं.) खेल करनेवाला, खेलनेवाला, जादूगर।
 खिलाना-(हि. क्रि. स.) भोजन कराना, फुलाना, विकसित करना, खेल में लगाना; -पिलाना-(क्रि.स.) खूब खाने-पीने को देना।
 खिलाफ-(अ. वि.) उलटा, विपरीत।
 खिलाफत-(अ. स्त्री.) खलीफा का पद।
 खिलीना-(हि.पुं.) क्रीड़ा-द्रव्य, लड़कों के खेलने का पदार्थ।
 खिलीरी-(हि. स्त्री.) भूने हुए अनेक प्रकार के बीज जो नमक-मिर्च मिलाकर खाये जाते हैं।
 खिल्ली-(हि. स्त्री.) हँसी, ठिठोली, पान का बीड़ा, गिलीरी, कौल, काँटा; (मुहा.)-उड़ाना-उपहास करना।
 खिसकना-(हि.क्रि.अ.) खसकना, हट जाना।
 खिसाना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'खिसियाना'।
 खिसियाना-(हि. क्रि. अ.) लजाना, क्रोध करना; (वि.) लज्जित।
 खिसी-(हि. स्त्री.) लज्जा, शर्म, ढिठाई।
 खिसाँहा-(हि. वि.) लज्जित के सदृश।
 खींच-(हि. स्त्री.) आकर्षण, खिंचाव; -तान-(स्त्री.) उलट-पलट, धीगा-धींगी, दो मनुष्यों की परस्पर छीना-छीनी।
 खींचना-(हि.क्रि.स.) आकर्षण करना, धरीटना, निकालना, खोलना, भरना, हिलाना, वशीभूत करना, चलाना, लगाना, पीना, चुवाना, टपकाना, निःसार करना, रोकना, चित्र बनाना, माँगना, लिखना, तानना, ऐँचना, भभके से अर्क निकालना; (मुहा.) दई खींचना-पीड़ा हटाना; हाथ खींचना-कोई कार्य करना रोक देना।
 खींचा-खींची-(हि.स्त्री.) देखें 'खींचा-तानी'।
 खींचा-तानी-(हि. स्त्री.) देखें 'खींचतान'।
 खोज-(हि. स्त्री.) चिड़, झल्लाहट, चिढ़ाने की बात।
 खोजना-(हि.क्रि.अ.) चिढ़ना, झुंझलाना, खिजलाना।
 खोस-(हि. स्त्री.) देखें 'खोज'।
 खोसना-(हि.क्रि.अ.) चिढ़ना, खिजलाना।
 खोस-(हि. वि.) देखें 'क्षीण'।
 खोर-(हि. स्त्री.) एक खाद्य पदार्थ जो दूध में चावल पकाकर तथा चीनी, मेवे आदि डालकर बनता है; (मुहा.) -चटाना-बालक का अन्नप्राशन संस्कार जिसमें उसको खोर चटाई जाती है;

-मोहन-(पुं.) छेने की वनी हुई एक प्रकार की मिठाई।
 खोरा-(हि.पुं.) ककड़ी की जाति का एक फल।
 खील-(हि. स्त्री.) कील, काँटा, लार्ड भूना हुआ धान, लावा, एक प्रकार का गहना जो कान या नाक में पहिना जाता है, बहुत दिनों पर जोती जानेवाली भूमि।
 खीलना-(हि.क्रि.स.) खील लगाना, गाँठना।
 खीला-(हि. पुं.) बड़ा काँटा या कीला।
 खीली-(हि. स्त्री.) पान का बीड़ा, खिल्ली, गिलीरी।
 खीवन-(हि.स्त्री.) उन्मत्ता, पागलपन।
 खीवर-(हि. पुं.) वीर पुरुष।
 खीस-(हि. वि.) नष्ट, उजाड़; (स्त्री.) अप्रसन्नता, चिड़, क्रोध, विगाड़, लज्जा, ओंठ, ओंठ के बाहर निकले हुए दाँत, खिसियाहट; (मुहा.) -काड़ना,- निकालना-वेडंगी हँसी हँसना।
 खीसा-(हि.पुं.) थैला, जेब, थैली, खीस।
 खूँकड़वा-(हि. पुं.) कान का खूँट निकालनेवाला।
 खूँडला-(हि. पुं.) गिरा-पड़ा झोपड़ा।
 खूदाना-(हि.क्रि.स.) कुदाना, नचाना।
 खूबख, खूबखा-(हि. वि.) खाली, छूछा, जो धनहीन हो गया हो।
 खूबड़ी-(हि.स्त्री.) कुकड़ी, नेपाली कटार।
 खूबुर-(हि.स्त्री.) व्यर्थ का दोष लगाना।
 खूजलाना-(हि.क्रि.अ.,स.) रगड़ना, नख से घिसना, खूजली उठना, सुरसुरी होना।
 खूजलाहट-(हि.स्त्री) खूजली, सुरसुरी।
 खूजाना-(हि.क्रि.स.) देखें 'खूजलाना'।
 खूटक-(हि.स्त्री.) खटका, चिन्ता, आशंका।
 खूटकना-(हि.क्रि.अ.,स.) किसी वस्तु का ऊपरी भाग तोड़ लेना, सिरा कपटना, खूटका होना।
 खूटका-(हि. पुं.) देखें 'खूटक'।
 खूटचाल-(हि. स्त्री.) बुरी चाल, वुष्टता।
 खूटचाली-(हि. वि.) वुष्ट, उपद्रवी, दुराचारी।
 खूटना-(हि.क्रि.अ.) खलना, अलग रहना, साथ छोड़ना, पूरा या समाप्त होना।
 खूटपन, खूटपना-(हि.पुं.) खोटापन, बुराई।
 खूटाई-(हि. स्त्री.) खोटापन, बुराई।
 खूटाना-(हि. क्रि. अ.) समाप्त होना।
 खूटिला-(हि.पुं.) कान का एक आभूषण, करनफूल।
 खूटेरा-(हि. पुं.) खैर का वृक्ष।
 खूट्ट-(हि. वि.) पृथक्, अलग।

खूट्टी-(हि. स्त्री.) रेवड़ी नामक मिठाई।
 खूट्टी-(हि.स्त्री.) धाव पर जमी हुई पपड़ी।
 खूड्डी, खूड्डी-(हि. स्त्री.) पायखाने में का गड्डा।
 खूथ्या-(हि.पुं.) ठूँठ, बोटा, पेड़ को काट डालने पर इसका भूमि के ऊपर का भाग।
 खूथी-(हि. स्त्री.) ज्वार, अरहर इत्यादि के पौधे का वह अंश जो पौधा कट जाने पर खेत में रह जाता है, खूँटी, धरोहर, थाती, रुपया रखने की थैली, सम्पत्ति, धन।
 खूद-(फा. अव्य.) स्वयं, आप।
 खूदकाश्त-(फा. स्त्री.) भूमिधर की निजी जोत की जमीन।
 खूदगरज-(फा. वि.) अपना स्वार्थ या मतलब साधनेवाला।
 खूदगरजी-(फा. स्त्री.) स्वार्थपरता।
 खूदना-(हि. क्रि. अ.) खोदा जाना।
 खूद-ब-खूद-(फा. अव्य.) आपसे आप।
 खूदरा-(हि.पुं.) क्षुद्र वस्तु, फूटकर पदार्थ।
 खूदवाई-(हि. स्त्री.) खूदवाने का काम खूदवाने का वेतन।
 खूदवाना-(हि. क्रि. स.) खोदने का काम दूसरे से कराना।
 खूदा-(फा. पुं.) ईश्वर, स्वयंभू।
 खूदाई, खूदाव-(हि. स्त्री., पुं.) खोदने का काम या वेतन।
 खूदी-(हि. स्त्री.) कण, किनका, अन्न के छोटे टुकड़े।
 खूनुखूना-(हि. पुं.) बालकों का बजनेवाला खिलौना, झुनझुना, धुनधुना।
 खूनुस-(हि.स्त्री.) क्रोध, विगाड़, अनवन।
 खूनुसाना-(हि. क्रि. अ.) क्रुद्ध होना।
 खूनुसी-(हि. वि.) क्रोधी।
 खूफिया-(फा. वि., पुं.) गुप्त, गुप्तचर; -पुलिस-(पुं.) अपराध का गुप्त रूप से पता लगानेवाले पुलिस अधिकारी।
 खूभना-(हि.क्रि.अ.) चुभना, घँसना, घुसना।
 खूभराना-(हि.क्रि.अ.) उपद्रव करने के लिये इधर-उधर घूमना।
 खूभी-(हि.स्त्री.) कान में पहिनने की लौंग।
 खूमान-(सं.वि.) दीर्घायु, बड़ी आयुवाला।
 खूमार-(हि. पुं.) देखें 'खुमारी'।
 खूमारी-(हि. स्त्री.) रातभर जागने या नशा उतरने पर आनेवाला बालस्थ।
 खूमी-(हि. स्त्री.) क्षुद्र उद्भिजों की एक जाति जिसमें पत्ते या फूल नहीं लगते; यथा-भूईकोड़, कुकुरमुत्ता इत्यादि।
 खूरंड-(हि.स्त्री.) धाव पर की सूखी पपड़ी।
 खुर-(सं. पुं.) सींगवाले चौपायों के पैर की कड़ी टाप, नखी नामक औषधि।

खुरक-(हि.स्त्री.) खटका, सोच-विचार।
खुरखुर-(हि.पुं.) कण्ठ का धरधर शब्द।
खुरखुरा-(हि. वि.) ऊँचा-नीचा, खुर-
दरा, गड़नेवाला।

खुरखुराना-(हि.क्रि.अ.) खुरखुर करना,
धरधराना, गड़ना, ऊँचा-नीचा होना।
खुरखुराहट-(हि. स्त्री.) कण्ठ से होने-
वाला शब्द जो गले में कफ रकने से
होता है, खुरखुरापन।

खुरचन-(हि.स्त्री.) खुरचकर निकाली हुई
वस्तु, दूध की कड़ी मलाई जो औटाते
समय कड़ाही में चिपक जाती है।

खुरचना-(हि. क्रि. स.) किसी जमी हुई
वस्तु को छुरी इत्यादि से अलगाना,
खरोचना, करोना।

खुरचनी-(हि. स्त्री.) खुरचने का औजार,
खुरचकर निकाला हुआ पदार्थ।

खुरचाल-(हि. स्त्री.) बुरा आचरण।

खुरचाली-(हि.वि.) उपद्रवी, बखेड़िया।

खुरजी-(हि. स्त्री.) अधारी, बड़ा थैला,
घोड़े, बैल आदि की पीठ पर सामग्रियाँ
लादने का थैला।

खुरतार-(हि. स्त्री.) खुर का आघात,
टाप की चोट।

खुरपका-(हि. पुं.) चौपायों का एक
रोग जिसमें इनके मुख तथा खुर में
दाने निकल आते हैं।

खुरपा-(हि.पुं.) घास छीलने की बड़ी
खुरपी।

खुरमा-(फा. पुं.) एक प्रकार की मैदे की
मिठाई।

खुर(रा) सानी-(सं. स्त्री.) खुरासान की
अजवाइन।

खुरहर-(हि.स्त्री.) मार्ग में खुर का चिह्न,
पगडंडी।

खुराई-(हि. स्त्री.) चौपायों के पैर
वाँघने की रस्ती।

खुराक-(फा.स्त्री.) भोजन, खाना, आहार।

खुराकी-(फा. वि., स्त्री.) खुराक के लिए
दिया जानेवाला (अन्न)।

खुराफात-(अ. स्त्री.) झगड़ा, बखेड़ा,
गाली-गालोज, बेहदगी।

खुरायल-(हि. पुं.) बोनै के लिये तैयार
किया हुआ खेत।

पुराही-(हि. स्त्री.) ऊँचा-नीचा रास्ता।

पुरिया-(हि.स्त्री.) कटोरी, छोटा प्याला।

खुरी-(हि. स्त्री.) खुर का चिह्न।

खुरक-(हि. स्त्री.) देखें 'खुरक'।

खुरचनी-(हि. स्त्री.) खुरची जानेवाली
या खुरचनेवाली वस्तु, खुरचनी।

खुरीट-(हि. वि.) वृद्ध, बूढ़ा, पुराना,
अनुभवी, चतुर।

खुलना-(हि. क्रि. अ.) उद्घाटित होना,
हटना, उघड़ना, बन्द न रहना, विदीर्ण
होना, फटना, चिरना, कटना, निक-
लना, जारी होना, टूटना, सरकना,
ठहरना, जान पड़ना, देखने में अच्छा
लगना, भला जान पड़ना, भेद कहना,
सजना, कार्य आरम्भ होना।

खुलवा-(हि. पुं.) गली हुई धातु को
ढालने के लिये साँचे में भरनेवाला।

खुलवाना-(हि.क्रि.स.) खोलने का काम
दूसरे से कराना।

खुला-(हि. वि.) अवद्ध, जो बाँधा या बंद
न हो, अवरोधहीन, बिना रकावट का,
स्पष्ट, प्रकट, जो छिपा न हो।

खुलेआम-(हि. अव्य.) सब के सम्मुख,
प्रकट में।

खुलक-(सं. वि.) कनिष्ठ, छोटा, दरिद्र,
निष्ठुर।

खुल्लम-खुल्ला-(अ. अव्य.) प्रकट रूप
से, सब के सामने।

खुश-(फा.वि.) प्रसन्न, सुखी, आनन्दित।

खुशकिस्मत-(फा. वि.) भाग्यवान्।

खुशकिस्मती-(फा. स्त्री.) सौभाग्य।

खुराखवरी-(फा. स्त्री.) शुभ या अच्छी
खबर।

खुशदिल-(फा. वि.) प्रसन्न रहनेवाला।

खुशबू-(फा. स्त्री.) सुगन्ध।

खुशबुदार-(फा. वि.) सुगन्धित।

खुशमिजाज-(फा. वि.) प्रसन्नचित्त।

खुशमिजाजी-(फा. स्त्री.) मानसिक
प्रसन्नता, खुशी।

खुशहाल-(फा. वि.) सुखी, संपन्न।

खुशामद-(फा. स्त्री.) चापलूसी, खुश
करने की बातें, झूठी प्रशंसा।

खुशामदी-(फा. वि.) चापलूस, खुशामद
करनेवाला; (मुहा.) -टट्टू-खुशामद
करके जीविका अर्जन करनेवाला।

खुशी-(फा. स्त्री.) प्रसन्नता, मरजी,
इच्छा; -खुशी-(अव्य.) प्रसन्नतापूर्वक;
(मुहा.) -से फल उठना-अति प्रसन्न होना।

खुशक-(फा. वि.) सूखा, रूखा।

खुशकी-(फा. स्त्री.) सूखापन, रूखापन।

खुसाल-(हि. वि.) आनन्दित, प्रसन्न।

खुवार-(फा. वि.) खन
जंगली पशु, क्रूर, निर्दय।

खुंद-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

खुरी-(हि. पुं.) प्रान्त, भाग।

की मूल; (स्त्री.) रोकटोक।
खूटना-(हि. क्रि. स.) टोकना, पूछताछ
करना, छेड़ना, घटना, कम होना, खूटना।
खूटा-(हि. पुं.) मेख, पशु वाँघने के लिये
भूमि में गड़ा हुआ लकड़ी या बाँस का
टुकड़ा; (मुहा.) -गाड़ना-अच्छा जमा
लेना।

खूटी-(हि. स्त्री.) छोटा खूटा या मेख,
डंठल, गुल्ली, अटी, निकलनेवाले वालों
का सिरा, सीमा, छोर, मेख के आकार
की लकड़ी।

खूथी-(हि. स्त्री.) कटे पीधे की छोटी
खूटी, खुथी।

खूंद-(हि. पुं.) थोड़े स्थान में धोके
का इधर-उधर चलना या पैर पटकना।

खूंदना-(हि. क्रि. अ., स.) पैर उठा-
उठाकर उसी जगह पटकना, नाचना,
रौंदना, कुचलना।

खूखी-(हि. स्त्री.) पीधों को नाश करगे-
वाला एक कीड़ा, गेरूई।

खूक्षा-(हि. पुं.) फल के भीतर का रेशे-
दार भाग।

खूटना-(हि. क्रि. अ., स.) खण्डित होना,
रुकना, चुकना, कम पड़ना, चिढ़ाना हेरी
उड़ाना, दिक करना, बन्द होना।

खूद, खूदड़, खूदर-(हि.पुं.) मूल, तलछट।

खून-(फा. पुं.) रक्त, रविधर, हत्या,
कतल; (मुहा.) (आँखों में) खून
उतरना-क्रोध से आँखें लाल होना;

-उबलना या खोलना-गुस्सा चढ़ना;

-का जोश-युवावस्था, प्रेम, वंश या
कुल के कारण उत्पन्न होनेवाला उमंग;

-का दौरा-रक्त का संचार; -का
प्यासा-जान मारने को उद्यत; -के
आँसू रोना-बहुत अधिक रोना; -के घूंट
पीना-अत्यधिक क्रोध को दबा लेना;

-पानी एक करना-नृशंस जनहत्या
करना; -बहाना-रक्तपात करना;

-सिर पर चढ़ना-पूर्वी के चेहरे से
उसके अपराध का इंगित मिलना।

खून-खराबा(बी)-(फा. पुं., स्त्री.)
खूनपात, हत्या।

खुनी-(फा. वि.) जान मारनेवाला,
हत्या, कातिल; -खुनाखोर-(स्त्री.)
बह बवाखोर जिनमें मस्ते से खून
निकलता है।

खुब-(फा. वि.) अच्छा, उमरा, उत्तम।

खुबखुरत-(फा. वि.) मुन्दर।

खुबखुरती-(फा. वि.) मुन्दर।

खुबी-(फा. वि.) मुन्दर।

खुबी-(फा. वि.) मुन्दर।

खुबी-(फा. वि.) मुन्दर।

खुबी-(फा. वि.) मुन्दर।

विशेषता, गुण ।

खूसट-(हि. पुं.) उल्लू, घुघु; (वि.) गंवार, अरसिक ।

खेक (ख) सा-(हि. पुं.) परवर के आकार का फल जिसकी तरकारी खाई जाती है ।

खेचर-(सं. पुं.) शिव, विद्याधर, पारा, सूर्य आदि ग्रह, मेष आदि राशियाँ, कसीस, पक्षी, चिड़िया, घोड़ा, वायु, देवता, वादल, राक्षस; (वि.) आकाशगामी ।

खेचरी गूटिका-(सं. स्त्री.) एक मन्त्र-सिद्ध गोली जिसको मुँह में रखने पर मनुष्य पक्षी की तरह उड़ सकता है ।

खेचरी मुद्रा-(सं. स्त्री.) एक तन्त्रोक्त मुद्रा जिसमें जीभ उलटकर तालु में लगाई जाती है तथा दृष्टि दोनों भौंहों के बीच में स्थिर की जाती है ।

खेट-(सं. पुं.) सूर्य आदि ग्रह, चमड़ा, आखेट, कफ, घोड़ा, किसानों का गाँव, खेड़ा ।

खेटक-(सं. पुं.) गाँव, ढाल, आखेट ।

खेटकी-(सं. पुं.) ज्योतिषी, वहेलिया ।

खेड़ा-(हि. पुं.) छोटा गाँव ।

खेड़ी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का देशी लोहा, मांस का टुकड़ा जो जरायुज जीवों के प्रसूत वच्चों के नाल के दूसरे छोर में लगा रहता है ।

खेत-(हि. पुं.) क्षेत्र, जोतने-बोने की भूमि, स्थान, जगह, समर-भूमि, कृषि, फसल, तलवार का फल; (मुहा.)-आना-युद्धक्षेत्र में वीरगति प्राप्त करना; -कमाना-जूताई करके खाद आदि डालकर खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाना; करना-भूमि समतल बनाना; -काटना-खड़ी फसल चोरी से काटना; -रहना-युद्ध में मारा जाना ।

खेतिहर-(हि. पुं.) कृषक, किसान, खेती करनेवाला ।

खेती-(हि. स्त्री.) खेत में अन्न बोने का कार्य, कृषि, किसानी, खेत में लगा हुआ कृषिकल ।

खेतीवारी-(हि. स्त्री.) कृषिकार्य, किसानी ।

खेद-(सं. पुं.) अप्रसन्नता, शोक, थकावट, रोग, शिथिलता; -जनक-(वि.) खेदकर, दुःखदायी, शोचनीय ।

खेदना-(हि. क्रि. स.) खेदना, भगाना, मारकर हटाना, पीछा करना ।

खेदा-(हि. पुं.) शिकार में किसी जंगली पशु को पकड़ने या वध करने के लिये खदेड़कर किसी निर्धारित स्थान पर ले जाना, शिकार, आखेट ।

खेदाई-(हि. स्त्री.) खेदने का कार्य ।

खेदित-(सं. वि.) दुःखित, शिथिल ।

खेना-(हि. क्रि. स.) नाव चलाने के लिये डाँड़े को पानी में चलाना, निर्वाह करना, पार लगाना, समय बिताना ।

खेप-(हि. स्त्री.) बोझ, लदान, चलान, उतनी वस्तु जो एक बार ढोकर ले जाई जाती है, फेरा या खेवा ।

खेपना-(हि. क्रि. स.) काटना, बिताना ।

खेमटा-(हि. पुं.) छः या चार मात्राओं का एक ताल, इस ताल पर होनेवाला नाच या गाना ।

खेमा-(अ. पुं.) तंबू, डेरा, पड़ाव ।

खेल-(हि. पुं.) केलि, क्रीड़ा, उछल-कूद, दौड़-घूप, काम, हलका काम, खिल-वाड़, स्वाँग, अभिनय, विचित्र लीला, निरालापन; (मुहा.)-खेलना-चाल-वाजी करना; खेलना-खालना-निर्द्वन्द्व जीवन बिताना; -खेलना-बेकार का काम करना, कष्ट देना, तंग करना; -विगाड़ना-बना-बनाया काम चौपट करना; -सनझना या जानना-कोई काम बहुत सहज या आसान समझना ।

खेलक-(हि. पुं.) खेलनेवाला, खेलाड़ी ।

खेलकूद-(हि. स्त्री.) खल, क्रीड़ा ।

खलन-(सं. पुं.) क्रीड़ा, खल, खलने की वस्तु ।

खलना-(हि. क्रि. अ.) खेल करना, भूत चढ़ना, विहार करना, धूमना-फिरना, अभिनय दिखलाना, स्वाँग बनाना; (मुहा.) जान पर खलना-ऐसा काम करना जिसमें मृत्यु का भय हो ।

खलवाड़-(हि. पुं.) हँसी, खेलकूद, क्रीड़ा, खेल ।

खलवाड़ी-(हि. वि.) बहुत खेलकूद करनेवाला ।

खेलाड़ी-(हि. वि.) खेलनेवाला, खेलैया, जुआरी, खेल में सम्मिलित होनेवाला, संसार को बनाने-विगाड़नेवाला परमेश्वर ।

खेलाना-(हि. क्रि. स.) क्रीड़ा में किसी को प्रवृत्त करना, खेल में लगाना, वहकाना; (मुहा.) खेला-खेलाकर मारना-बहुत साँसत देकर मारना ।

खेलौना-(हि. पुं.) देखें 'खिलौना' ।

खेवक-(हि. पुं.) नाव खेनेवाला, केवट, मल्लाह ।

खेवट-(हि. पुं.) पटवारी का एक कागज जिसमें हर एक जमींदार की भूमि का हिसाब लिखा रहता था ।

खेवनहार-(हि. पुं.) खेनेवाला, पार लगानेवाला ।

खेवा-(हि. पुं.) नाव का किराया, वार, भरी हुई नाव ।

खेवाई-(हि. स्त्री.) नाव चलाने का काम, नाव पर चढ़ने का किराया, नाव खेने का शुल्क ।

खेस-(हि. पुं.) मोटे सूत का लंबा चदरा ।

खेसारी-(हि. स्त्री.) एक कदन्न, लतरी ।

खेह-(हि. स्त्री.) बूल, मिट्टी; (मुहा.)-खाना-बूथा समय नष्ट करना ।

खेंचना-(हि. क्रि. स.) खींचना ।

खैवर-(हि. पुं.) हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान के बीच यातायातोपयोगी पहाड़ी दर्रा ।

खैर-(हि. पुं.) खदिर वृक्ष, बबूल की जाति का एक वृक्ष, इसकी लकड़ी से निकला हुआ रस, कत्था, वित्ता भर लंबा एक भूरे रंग का पक्षी ।

खैर-(अ. स्त्री.) कुशल, भलाई, नेकी ।

खैरखाह-(फा. वि.) शुभचिंतक, कुशल-कांक्षी ।

खैरा-(हि. वि.) खैर के रंग का, कथई रंग का; (पुं.) घान का एक रोग ।

खैरात-(फा. स्त्री.) दान-पुण्य, भिक्षादान ।

खैराती-(फा. वि.) धर्मार्थ संचालित, दातव्य ।

खैर (रौ) यत-(फा. स्त्री.) कुशल-मंगल, कल्याण, भलाई ।

खैलर-(हि. स्त्री.) मन्थन-दण्ड, मथानी ।

खैला-(हि. स्त्री.) खैलर ।

खोंछा-(हि. पुं.) स्त्रियों का आंचल ।

खोंचना-(हि. क्रि. अ.) खाँसना, खों खों करना ।

खों-खों-(हि. पुं.) खाँसने की आवाज ।

खोंगाह-(हि. पुं.) पीलापन लिये हुए सफेद रंग का घोड़ा ।

खोंच-(हि. स्त्री.) खरोट, किसी नुकीली वस्तु से शरीर पर आघात, खरोंच, काँटे आदि में फँसकर वस्त्र का फट जाना ।

खोंचा-(हि. पुं.) वहेलिये की लासा लगी हुई लम्बी ।

खोंची-(हि. स्त्री.) मुट्ठीभर द्रव्य, भिक्षुक को दिया जानेवाला थोड़ा-सा अन्न ।

खोंट-(हि. स्त्री.) नोचने या खोंटने की क्रिया, नोचने का चिह्न, खरोंच ।

खोंटना-(हि. क्रि. स.) कपटना, फुनगी तोड़ लेना ।

खोंडर—(हि. पूं.) वृक्ष के भीतर का पोला भाग, कोटर।

खोंड़ा—(हि. वि.) भग्न अंगवाला, जिसके दो-चार दाँत टूट गये हों।

खोंता—(हि. पूं.) नीड़, चिड़िया का घोंसला।

खोंप—(हि. स्त्री.) पसूज, सिलाई का लंबा टाँका, खोंच।

खोंपना—(हि. क्रि. स.) गड़ाना, चुभाना, घँसाना।

खोंपा—(हि. पूं.) हल की लकड़ी, छप्पर का कोना, नारियल का आधा टुकड़ा, गुच्छा या लच्छा।

खोंसना—(हि. क्रि. स.) अटकाना, लगाना, घुसाना।

खोआ—(हि. पूं.) देखें 'खोया'।

खोई—(हि. स्त्री.) रस निकले हुए ऊख के छोटे-छोटे टुकड़े, कम्बल की घोधी, घान का लावा।

खोखल—(हि. वि.) खोखला, पोला।

खोखला—(हि. वि.) पोला, जिसके भीतर कुछ न हो; (पूं.) वृक्ष का कोटर।

खोखा—(हि. पूं.) हुण्डी लिखा हुआ कागज, बालक (बंगला)।

खोज—(हि. स्त्री.) अनुसन्धान, चिह्न, पता, पैर का चिह्न; (मुहा.) खबर लेना—सुध-बुध लेना या पूछना।

खोजना—(हि. क्रि. स.) अनुसन्धान करना, हुँड़ना, पता लगाना।

खोजवाना—(हि. क्रि. स.) हुँड़ने का काम दूसरे से कराना।

खोजा—(हि. पूं.) मुसलमान राजाओं के रनवास का नपुंसक नौकर, सेवक, सरदार, मुखिया।

खोजी—(हि. वि.) अनुसन्धान करनेवाला।

खोट—(हि. स्त्री.) दूषण, बुराई, अच्छी वस्तु में बुरी वस्तु की मिलावट; (वि.) खोटा, बुरा।

खोटा—(हि. वि.) दोष या ऐव से भरा, दूषित, घटिया, अशुद्ध; खरा—(वि.) भला-बुरा; सिक्का—(पूं.) जाली या नकली सिक्का; (मुहा.) खरी खोटी सुनाना—डॉटना-डपटना, गालियाँ देना।

खोटाई—(हि. स्त्री.) दुष्टता, बुराई, झल-कपट।

खोटापन—(हि. पूं.) धोप, क्षुद्रता, ओछापन।

खोड़—(हि. स्त्री.) देवकोप, भूत-प्रेत लगना।

खोड़रा—(हि. पूं.) कोटर, दाँत आदि का खोखला भाग।

खोदना—(हि. क्रि. स.) गड़वा करना, खन-

कर किसी स्थान की मिट्टी निकालना, खनना, कोंचना, उसकाना, तकशी करना, छेड़ना, उत्तेजित करना, उभाड़ना; (मुहा.) खोद-खोदकर पूछना-एक-एक बात पूछना।

खोदनी—(हि. स्त्री.) खोदने का छोटा अस्त्र।

खोद-बिनोद—(हि. स्त्री.) जाँच-पड़ताल, छानवीन।

खोदवाना—(हि. क्रि. स.) खोदने का काम दूसरे से कराना।

खोदाई—(हि. स्त्री.) खोदने का काम या वेतन, खोदने का भाव।

खोनचा—(हि. पूं.) थाल या परात जिसमें फेरीवाले मिठाई आदि रखकर बेचते हैं।

खोना—(हि. क्रि. स.) पास की वस्तु गँवाना, बिगाड़ना, नष्ट करना, भूल से कोई वस्तु कहीं पर छोड़ देना; (मुहा.) खोया-खोया रहना—बहुत चिंतित और बेमुग्ध रहना।

खोपड़ा—(हि. पूं.) कपाल, सिर, नारियल, नारियल की गरी, नारियल का गोला, भीख माँगने का पात्र।

खोपड़ी—(हि. स्त्री.) कपाल, सिर, मस्तक की हड्डी; (मुहा.) अंधी या आँधी खोपड़ी का—मूर्ख; खाना या चाट जाना—अधिक बकवाद करके व्यग्र करना; खाली हो जाना—दिमाग का वेहद थक जाना; गंजी होना—सिर के बाल झड़ जाना।

खोपा—(हि. पूं.) छप्पर या घर का कोना, स्त्रियों की गूथी हुई चौटी जो तिकोनी होती है, वेणी, जूड़ा, नारियल या गरी का गोला।

खोवा—(हि. पूं.) थापी, पलस्तर करने का एक औजार।

खोभ—(हि. पूं.) देखें 'क्षोभ'।

खोभार—(हि. पूं.) कूड़ा-करकट फेंकने का गड़वा।

खोया—(हि. पूं.) खूब औटाया हुआ दूध जो पिण्ड-सा हो जाता है, मावा, खोवा। खोर—(हि. स्त्री.) सँकरी गली, कूचा, पशुओं को चारा खिलाने की नाँद।

खोरना—(हि. क्रि. अ.) स्नान करना, नहाना।

खोरा—(हि. पूं.) कटोरा, पानी पीने का पात्र; (वि.) लँगड़ा, लला।

खोराक—(हि. स्त्री.) देखें 'खुराक' भोजन।

खोराकी—(हि. स्त्री.) देखें 'खुराकी'।

खोरि, खोरी—(हि. स्त्री.) सँकरा मार्ग, पतली गली, छोटी कटोरी।

खोरिया—(हि. स्त्री.) कटोरी, प्याली।

खोल—(हि. पूं.) आवरण, झूल, ऊपर

का आवरण, कौड़े का ऊपरी चमड़ा, मोटे कपड़े की चादर।

खोलना—(हि. क्रि. स.) उद्घाटन करना, अवरोध हटाना, उवाड़ना, विगाड़ना, छेदना, स्थापन करना, आरंभ करना, चलाना, मुक्त करना, तोड़ना, काटना, प्रकाशित करना, बतलाना, प्रश्न पूछना, दरार करना, दैनिक कार्य आरंभ करना, गूढ़ बात को प्रगट करना; खोलकर—(अव्य.) स्पष्ट रूप से।

खोली—(हि. स्त्री.) आवरण।

खोवा—(हि. पूं.) देखें 'खोया'।

खोह—(हि. स्त्री.) गुफा, कन्दरा, दो पहाड़ों के बीच का संकुचित माग।

खोही—(हि. स्त्री.) पत्तों का बना हुआ छाता, घोधी।

खों—(हि. स्त्री.) गड़वा, अन्न रखने की खत्ती।

खोंचा—(हि. पूं.) साढ़े छः का पहाड़ा, मिठाई आदि रखने का सन्दूक।

खौर—(हि. स्त्री. वा पूं.) त्रिपुण्ड, चन्दन का टीका, स्त्रियों का मस्तक पर पहिनने का एक आमपण।

खौरना—(हि. क्रि. स.) खौर लगाना, चंदन का तिलक लगाना, नष्ट करना।

खौरहा—(हि. वि.) गंजा, जिसके सिर के बाल झड़ गये हों, जिस पशु के गरीर में खुजली हुई हो।

खौरा—(हि. वि., पूं.) एक प्रकार की खुजली जिसमें चमड़ा रुखा पड़ जाता है, खौरा से पीड़ित (पशु)।

खौलना—(हि. क्रि. अ.) गरम होकर चुरना; उबलना।

खौलाना—(हि. क्रि. स.) उबालना, जल, दूध आदि खूब गरम करना।

ख्यात—(सं. वि.) कथित, प्रसिद्ध।

ख्याति—(सं. स्त्री.) प्रशंसा, प्रसिद्धि, प्रकाश, ज्ञान।

ख्यापक—(सं. वि.) स्थापन करनेवाला।

ख्यापन—(सं. पूं.) प्रकट या प्रकाशित करने की क्रिया, शूहरत।

ख्याल—(अ. पूं.) ध्यान, स्मरण, विचार, भाव, आदर; (मुहा.)—रखना—ध्यान या याद रखना;—से उतरना—भूल जाना।

ख्याली—(हि. वि.) कल्पित, फर्जी; (मुहा.)—पुलाव पकाना—हुवाई किला बनाना, असंभव, रंगीले दिवा-स्वप्न देखना।

ख्यातान—(हि. पूं.) ईसाई, क्रिस्तान।

ख्यातिय—(हि. वि.) ईसाई धर्म-संबंधी।

खीष्ट—(हि. पूं.) ईसामसीह, हजरत ईसा।

स्वाजा-(फ़ा. पुं.) सरदार, मालिक, मुसलमान फ़ौज़ी, खोज़ा।
स्वाच-(फ़ा. पुं.) सपना, स्वप्न।
स्वाहिस-(फ़ा.स्त्री.) अमिलापा, इच्छा;
-मंद-(वि.) इच्छुक, आकांक्षी।

ग

ग-कवर्ग का तीसरा व्यंजन, इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ है; (सं.पुं.) गीत, गणेश, गर्ध्व, एक गुरु वर्ण; (वि.) जानेवाला, जानेवाला।
गंग-(हि. स्त्री.) गंगा; (पुं.) भक्तिकाल के एक प्रसिद्ध हिन्दी कवि।
गंगवरार-(हि. पुं.) गंगा या अन्य नदी की धारा या बाढ़ के हटने से निकली हुई भूमि या रेती।
गंगशिकस्त-(हि. पुं.) वह जमीन जिसको नदी की बाढ़ ने काट दी।
गंगा-नाति-(सं. स्त्री.) गंगा में अन्त्येष्टि क्रिया।
गंगा-जमुनी-(हि. वि.) दो-रंगा, दो-धातुओं का बना हुआ।
गंगा-जल-(सं. पुं.) गंगा का पानी।
गंगाजली-(हि. स्त्री.) गंगा का जल भरने का पात्र; (मुहा.)-उठाना-गंगाजली हाथ में लेकर कसम खाना।
गंगाघर-(सं. पुं.) जिव, महादेव।
गंगापुत्र-(सं. पुं.) भोष्म, गंगा के किनारे दान लेनेवाले ब्राह्मण।
गंगालाभ-(सं. पुं.) गंगा-गति।
गंगा-सागर-(सं. पुं.) हिन्दुओं का एक तीर्थ जहाँ गंगा का सागर-संगम होता है।
गंगोटी-(हि. स्त्री.) गंगा नदी की मिट्टी।
गंगोदक-(सं. पुं.) गंगा जल।
गंगोलिया-(हि. पुं.) एक प्रकार का नीवू।
गंज-(हि. पुं.) सिर के बाल गिरने का रोग, चँदलाई; (फ़ा. स्त्री.) कोश, मजाना, गल्ले की मंडी, बाजार।
गंजन-(सं. पुं.) तिरस्कार, कष्ट, नाश।
गंजा-(हि. पुं.) गंज रोग।
गंजाना-(हि. क्रि. ग.) गंजने का काम दूसरे से कराना।
गंजिया-(हि. स्त्री.) धसियारे की घास भरने की जालीदार थैली।
गंजी-(हि. स्त्री.) कमीज के नीचे पहनने की बनिवास या छोटी और कम कुर्ची; (पुं.) देने 'गंजड़ी'।
गंजेटी-(हि. वि., पुं.) गंजा पीनेवाला।
गंजकटा-(हि. पुं.) कपड़े काटकर रुपये-

पैसे निकाल लेनेवाला चोर, गिरहकट।
गंठबंधन-(हि. पुं.) ग्रन्थिवन्धन, विवाह की एक रीति, विवाह, मैत्री, दोस्ती।
गंड-(सं. पुं.) गाल, कपोल, कनपटी, गंडा जो गले में पहना जाता है, मंडलाकार चिह्न, गड़ारी, गाँठ।
गंडमाला-(सं. स्त्री.) देखें 'कंठमाला'।
गंडस्थल-(सं. पुं.) कनपटी, कपोल।
गंडा-(हि. पुं.) मंत्र पढ़कर वाहु में बाँधा जानेवाला सूता, तोते आदि का कंठा;
-ताबीज-(पुं.) यंत्र-मंत्र, टोटका।
गंडासा-(हि. पुं.) चारा काटने का अस्त्र।
गंडेरी-(हि. स्त्री.) ऊख के छोटे-छोटे टुकड़े।
गंडोरा-(हि. पुं.) हरी तथा कच्ची खजूर।
गंदला-(हि. वि.) गंदा, मैला, अपवित्र।
गंदा-(फ़ा. वि.)-मैला, धिनौना, बुरा, गलीज से भरा।
गंदीला-(हि. पुं.) एक प्रकार की घास।
गंध-(सं. स्त्री.) सुगंध, वास, महक।
गंधक-(सं. पुं., स्त्री.) एक जलनेवाला पीला पदार्थ या खनिज।
गंधकी-(हि. वि.) गंधक के रंग का, हल्का पीला।
गंधविलाव-(सं. पुं.) नेवले से कुछ बड़ा एक मांसभक्षी पशु।
गंध-माजोर-(सं. पुं.) गंधविलाव।
गंधर्व-(सं. पुं.) एक देवयोनि, गायक, कस्तूरी मृग, सूर्य, कोकिल; -विद्या-(स्त्री.) संगीत; -विवाह-(पुं.) आपसी पसंद के द्वारा होनेवाला विवाह; -वेद-(पुं.) संगीत शास्त्र।
गंधाना-(हि. क्रि. अ.) दुर्गन्ध निकलना।
गंधिया-(हि. पुं.) एक प्रकार का वरसाती कीड़ा।
गंधी-(सं. पुं.) तेल, इत्र आदि सुगंधित द्रव्य बेचनेवाला, अत्तार, गंधिया कीड़ा।
गंधीला-(हि. वि.) बुरी गंध देनेवाला।
गंधारी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का वृक्ष।
गंधीर-(सं. वि.) जो बहुत कम बोलता हो, शान्त-चित्त, गहरा, गहन, गूढ़, जटिल; -ता-(स्त्री.) गंधीर होने का भाव।
गंवे-(हि. स्त्री.) मौका, अवसर, उपाय, यक्ति, ढंग।
गंवेई-(हि. स्त्री.) गाँव, गाँव की वस्ती।
गंवर-भसला-(हि. पुं.) ग्रामीण कहावत।
गंवाना-(हि. क्रि. स.) समय, धन आदि व्यय करना, खोना, वित्ताना।
गंवार-(हि. वि.) गाँव का रहनेवाला, ग्राम्य या ग्रामीण, बैवकूफ, अनाड़ी।
गंवारी-(हि. स्त्री.) गंवारपन, देहाती-

पन; (वि.) गंवार का-सा, मद्दा।
गंवारू-(हि. वि.) गाँव का, मोटी रहन-सहन का।
गंसना-(हि. क्रि. स.) अच्छी तरह कसना, जकड़ना, गाँठना, धनी बुनावट करना।
गंसीला-(हि. वि.) नोकदार, चुभनेवाला।
गँह-(हि. पुं.) पकड़ना, ग्रहण।
गई करना-(हि. क्रि. अ.) तरह देना, छोड़ देना।
गई-बहोर-(हि. वि.) खोई हुई वस्तु को प्राप्त करानेवाला।
गगन-(सं. पुं.) आकाश, शून्य।
गगन-चर-(सं. वि., पुं.) पक्षी, गगन में विचरनेवाला।
गगन-चुंबी-(सं. वि.) आकाश को छूनेवाला, बहुत ऊँचा (महल)।
गगनभेदी-(सं. वि.) गगनचुंबी।
गगनसिंधु-(सं. पुं.) मन्दाकिनी, आकाश गंगा।
गगन-स्पर्शी-(सं. वि.) गगनभेदी।
गगनांग-(सं. पुं.) मात्रावृत्त का एक भेद।
गगनांगना-(सं. स्त्री.) दिवाङ्गना, अप्सरा।
गगनावु-(सं. पुं.) गगनोदक, वरसाती पानी।
गगनेचर-(सं. पुं.) देवता, सूर्यादि ग्रह, शशिक्रक।
गगरा-(हि. पुं.) कलश, कलसा, घड़ा, धातु का अथवा मिट्टी का घड़ा।
गगरी-(हि. स्त्री.) कलसी, छोटा घड़ा।
गगोरा-(हि. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा।
गच्च-(हि. स्त्री.) सीमेन्ट से बनी हुई पक्की भूमि; -कारी-(स्त्री.) गच्च बनाने का काम; -गीर-(पुं.) गच्च बनानेवाला।
गचना-(हि. क्रि. स.) किसी पात्र में कोई वस्तु कसकर भरना।
गचाका-(हि. पुं.) गिरने का शब्द।
गछना-(हि. क्रि. अ., स.) चलना, चलाना, अपने ऊपर लेना, निवाहना।
गज-(सं. पुं.) हस्ति, हाथी, एक राक्षस का नाम, रामचन्द्र की सेना का एक बन्दर, आठ की संख्या; (फ़ा. पुं.) लंबाई की एक माप जो तीन फुट के बराबर होती है।
गजकर्ण-(सं. पुं.) एक असुर का नाम, एक प्रकार का पलाश।
गजकर्णी-(सं. स्त्री.) गजपीपल।
गजकुंभ-(हि. पुं.) हाथी के मस्तक पर का दोनों ओर का उमड़ा हुआ भाग।
गजकुमुस-(सं. पुं.) नागकेशर।
गजहृष्णा-(सं. स्त्री.) बड़ी पीपल।
गजकीड़ित-(सं. पुं.) एक प्रकार का नाच।
गजगति-(सं. स्त्री.) हाथी की मन्द

चाल, एक वर्षवृत्त का नाम ।
गजगमन—(सं. पुं.) हाथी की तरह मन्द गति ।
गजगामिनी—(सं. स्त्री.) हाथी के समान मन्द गति से चलनेवाली स्त्री ।
गजगाह—(हिं. पुं.) हाथी की झूल, पाखर ।
गजगौन—(हिं. पुं.) देखें 'गजगमन' ।
गजजर्ब—(सं. पुं.) एक रोग जिसमें शरीर का चमड़ा मोटा और रूखा हो जाता है ।
गजचिभित—(सं. पुं.) एक प्रकार का तरबूज ।
गजच्छाया—(सं. स्त्री.) सूर्यग्रहण का काल ।
गजट—(अ. पुं.) सूचना-पत्र, राजपत्र; (क्रि. प्र.)—होना—किसी सूचना का गजट में प्रकाशित होना ।
गजदत्त—(सं. पुं.) गणेश, नागदन्त, भीत में लगाई हुई खूँटी, हाथी के दाँत के ऊपर जपनेवाला दाँत, वह घोड़ा जिसके दाँत निकले हों ।
गजदान—(सं. पुं.) हाथी का मद ।
गजना—(हिं. क्रि. अ.) गरजना ।
गजनाल—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की बड़ी तोप जो प्राचीन काल में हाथी द्वारा खींची जाती थी ।
गजनासा—(सं. स्त्री.) हाथी की सूँड़ ।
गजपत्ति—(सं. पुं.) श्रेष्ठ हाथी ।
गजपाल—(सं. पुं.) हाथीवान, महावत ।
गजपिप्पली—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की बड़ी पीपल ।
गजपीपर, गजपीपल—(हिं. स्त्री.) देख 'गजपिप्पली' ।
गजपुट—(सं. पुं.) एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा तथा एक हाथ गहरा गड्ढा जिसमें कंडा जलाकर बैद्य लोग वातु का भस्म बनाते हैं ।
गजप्रिया—(सं. स्त्री.) शल्लकी वृक्ष, साल का पेड़ ।
गजदशन—(हिं. पुं.) गजानन, गणेश ।
गजबंध—(सं. पुं.) एक प्रकार का चित्रकाव्य ।
गजब—(अ. पुं.) विलक्षण वात, आफत, आपत्ति, विपत्ति, अंधेर; —झा—(वि.) विलक्षण ।
गजबला—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की झाड़ी ।
गजवाग—(हिं. पुं.) हाथी का अंकुश ।
गजगंजन—(सं. पुं.) हाथी का अलंकार ।
गजमणि—(सं. पुं.) गजमुक्ता, गजमोती ।
गजमुक्ता—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का मोती जो हाथी के मस्तक में पाया जाता है ।
गजमुख—(सं. पुं.) गणेश ।
गजमोती—(हिं. पुं.) देखें 'गजमुक्ता' ।
गजर—(हिं. पुं.) पहर-पहर पर घंटा

बजने का शब्द, पारी, प्रातःकाल का घंटा; —दम—(अव्य.) बड़े सवेरे, तड़के ।
गजर-बजर—(हिं. पुं.) अंडबंड, गोलमाल ।
गजरा—(हिं. पुं.) फूलों की माला, कलाई में पहिने का एक आभूषण, एक प्रकार का रेशमी वस्त्र, गाजर ।
गजराज—(सं. पुं.) बड़ा हाथी ।
गजल—(अ. स्त्री.) फारसी या उर्दू में प्रेम-विषयक काव्य या गीत ।
गजलोल—(हिं. पुं.) एक ताल-भेद ।
गजवदन—(सं. पुं.) हाथी का मुख, गणेश ।
गजवान—(हिं. पुं.) महावत, हाथीवान ।
गजशाला—(सं. स्त्री.) हाथी बाँधने का बाड़ा ।
गजही—(हिं. स्त्री.) दूध में से मक्खन निकालने की मथानी ।
गजा—(हिं. पुं.) नगाड़ा बजाने का डंडा ।
गजाघर—(हिं. पुं.) देखें 'गदाघर' ।
गजानन—(सं. पुं.) पार्वती के पुत्र, गणेश ।
गजारि—(सं. पुं.) सिंह ।
गजारोह—(सं. पुं.) महावत ।
गजिया—(हिं. स्त्री.) बिटाई (फैलाने) का एक यंत्र ।
गजेंद्र—(सं. पुं.) बड़ा हाथी, ऐरावत ।
गजेंद्रगुरू—(सं. पुं.) संगीत में रदताल का एक भेद ।
गज्जूह—(हिं. पुं.) हाथियों का झुंड ।
गजिन—(हिं. वि.) सघन, घना, मोटा, ठस विना हुआ ।
गट—(हिं. पुं.) पानी, शरवत आदि घोंटने से होनेवाला शब्द; —गट—(अव्य.) गट-गट की आवाज के साथ, जल्दी-जल्दी ।
गटकना—(हिं. क्रि. स.) खाना, निगलना, दबा लेना ।
गटना—(हिं. क्रि. अ.) जकड़ जाना ।
गटपट—(हिं. स्त्री.) मेल, मिलान, संयोग, प्रसंग, सहवास, घनिष्ठता ।
गटरमाला—(हिं. स्त्री.) बड़े-बड़े दानों की माला ।
गटागट—(हिं. अव्य.) देखें 'गटगट' ।
गटी—(सं. स्त्री.) ग्रन्थि, गाँठ ।
गट्टा—(हिं. पुं.) हथेली और पहुँचे के बीच का जोड़, कलाई, गाँठ, ग्रन्थि, एक प्रकार की मिठाई ।
गठठर, गठ्ठा—(हिं. पुं.) बड़ी गठरी, बोझा ।
गठ्ठी—(हिं. स्त्री.) गाँठ ।
गठ्ठटा—(हिं. पुं.) गाँठ काटकर खपया चुरानेवाला, गिरहकट ।
गठन—(हिं. स्त्री.) वनावट, रचना, शरीर का कसाव ।

गठना—(हिं. क्रि. अ.) मिलकर एक होना, जुड़ना, झटना, विनावट का पुष्ट होना, अनुकूल होना, गुप्त वात में सहमत होना, अधिक मेल होना, संभोग करने के लिये जुटना; गठा शरीर—(पुं.) कसावदार वदन ।
गठरी—(हिं. स्त्री.) बड़ी पोदरी, वुकचा; —मुदरी—(स्त्री.) सामानों का गट्ठर; (मुहा.)—कटना—अच्छी खासी रकम हाथ से निकल जाना; —मारना—किसी का घन छल करके हुर लेना ।
गठवाँसी—(हिं. स्त्री.) विस्वे का वीसवाँ अंश, विस्वाँसी ।
गठवाना, गठाना—(हिं. क्रि. स.) जुड़वाना, जोड़ मिलवाना, सिलवाना ।
गठाव—(हिं. पुं.) देख 'गठन', वनावट ।
गठित—(हिं. वि.) गठा हुआ ।
गठबंध—(हिं. पुं.) गठबंधन, विवाह ।
गठिया—(हिं. स्त्री.) बौरा जिसमें अन्न भरकर व्यापारी लोग वैल या घोड़े पर लादते हैं, पोदली, छोटी गठरी, कपड़े की गाँठ, एक प्रकार का वात-रोग जिसमें घुटने में सूजन और पीड़ा होती है ।
गठियाना—(हिं. क्रि. स.) गाँठ लगाना, गाँठ बाँधना ।
गठिवन—(हिं. पुं.) नीले रंग के फूल का वृक्ष, एक सुगन्धित फूल वाला पौधा ।
गठौला—(हिं. वि.) गाँठ दार, दूढ़, प्रसिद्ध, सुडौल, गठा हुआ ।
गठ्ठा—(हिं. पुं.) भूसे की गाँठ ।
गठ्ठाँद—(हिं. स्त्री.) गाँठ की बँधाई, घरोहर ।
गठौत, गठौती—(हिं. स्त्री.) मित्रता, घनिष्ठता, मेलजोल, निश्चित की हुई बात ।
गडंत—(हिं. स्त्री.) टोटकागाड़ने का काम ।
गड़—(सं. पुं.) रुकावट अवरोध, ओट, आड़, घेरा, खोह, गढ़, विघ्न, गड्ढा ।
गड़गड़—(हिं. स्त्री.) बादल गरजने या गाड़ी के चलने का शब्द, पेट में वायु का शब्द ।
गड़गड़ा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का हुक्का ।
गड़गड़ाना—(हिं. क्रि. अ.) गरजना, कड़कना, गड़गड़ शब्द कर्ना ।
गड़गड़ाहट—(हिं. स्त्री.) गड़गड़ाने का शब्द, हुक्का पीने का शब्द ।
गड़गड़ी—(हिं. स्त्री.) नगाड़ा, डुग्गी ।
गड़गड़—(हिं. पुं.) लत्ता, चिथड़ा, फटा-पुराना कपड़ा ।
गड़दार—(हिं. पुं.) मतवाले हाथी के साथ-साथ माला लेकर चलनेवाला नीकर ।
गड़ना—(हिं. क्रि. अ.) चुनना, घँसना,

घुसना, शरीर में किसी वस्तु का घँसना, दुखना, पीड़ा होना, दबना, स्थिर होना; (मुहा.) गड़ जाना-लज्जित होना; गड़ा मुर्दा या गड़े मुर्दे जवाड़ना-पुरानी भूली हुई बातों की चर्चा छेड़ना।

गड़प-(हि. स्त्री.) पानी या कीचड़ में बँसने का अर्थ।

गड़पना-(हि. क्रि.स.) निगलना, खा जाना, दूसरे की वस्तु पर अधिकार करना।

गड़प्पा-(हि. पुं.) गड़बा, छले जाने का स्थान।

गड़वड़-(हि. वि.) ऊँचा-नीचा, अनियमित, अडबंद, ठीक समय पर न किया जानेवाला; (पुं., स्त्री.) आपत्ति, उपद्रव, दंगा, अव्यवस्था, बुरा प्रबंध।

गड़वड़झाला-(हि. पुं.) अव्यवस्था, उपद्रव।

गड़वड़ा-(हि. पुं.) गर्त, गड़बा।

गड़वड़ाना-(हि. क्रि. अ., स.) भूल या भ्रम में पड़ना, चक्कर में आ जाना, अव्यवस्थित होना, विगड़ना, भुलवाना, विगाड़ना, भ्रम में डालना, क्रम-भंग होना, गड़वड़ी में पड़ना।

गड़वड़िया-(हि. वि.) उपद्रव करनेवाला, नंगा, छली।

गड़वड़ी-(हि. स्त्री.) अव्यवस्था, गोलमाल।

गड़रिया-(हि. पुं.) एक जाति जो भेड़ पालती और उनके बाल के कम्बल आदि बनाती है।

गड़हा-(हि. पुं.) गर्त, गहरी भूमि, गड़बा।

गड़ही-(हि. स्त्री.) छोटा गड़हा।

गड़ना-(हि. पुं.) ढेर, राशि, समुदाय।

गड़ाना-(हि. क्रि. स.) घँसाना, चुमाना, मोंकना, घँसाने का काम दूसरे से कराना।

गड़ाप-(हि. पुं.) देख 'गड़प'।

गड़ायत-(हि. वि.) गड़ने या घँसनेवाला।

गड़ारी-(हि. स्त्री.) मण्डलाकार रेखा, वृत्त, घरा, पास-पास बनी हुई धारियाँ, धिरनी, कुएँ में से पानी खींचने की चरबी; -दार-(वि.) जिस पर पास-पास अनेक धारियाँ पड़ी हों, घेरदार।

गड़ई-(हि. स्त्री.) पानी पीने का छोटा टोटीदार पात्र, झारी।

गड़ुवा-(हि. पुं.) टोंटी लगा हुआ लोटा।

गड़ेरिन-(हि. स्त्री.) गड़रिया की स्त्री।

गड़ेरिया-(हि. पुं.) देखें 'गड़रिया'।

गड़ोना-(हि. क्रि. स.) देखें 'गड़ाना'।

गड़ोना-(हि. पुं.) एक प्रकार का मीठा पान, काँटा।

गड़उ-(हि. पुं.) वस्तुओं का ढेर जो एक के ऊपर दूसरा रखा हो, गंज;

-वड़ड-(पुं.) बेमेल की मिलावट, घालमेल।

गड़डर-(सं. पुं.) मेघ, भेड़ा।

गड़डरिक्-(सं. पुं.) भेड़ पालनेवाला, गड़ेरिया।

गड़डी-(हि. स्त्री.) ढेर, पुंज, राशि।

गड़बा-(हि. पुं.) गर्त, गड़हा, भूमि में गहरा स्थान; (मुहा०) किसी के लिये गड़बा खोदना-किसी की बुराई करने का प्रयत्न करना।

गड़ंत-(हि. स्त्री.) कल्पित वार्ता, वनावटी बात।

गड़-(हि. पुं.) खाई, कोट।

गड़न-(हि. स्त्री.) आकृति, गठन, वनावट।

गड़ना-(हि. क्रि.स.) काट-छाँटकर बनाना, सुझौल करना, बातें बनाना, ठोंकना, मारना-पीटना, कल्पना करना।

गड़पति, गड़वड़, गड़वै-(हि. पुं.) कोटा-ध्यक्ष, सरदार, राजा।

गड़वाल-(हि. पुं.) वह जिसके अधीन में गड़ हों, उत्तर प्रदेश के कमाऊँ विभाग का एक जिला।

गड़ा-(हि. पुं.) गड़बा, गड़हा।

गड़ाई-(हि. स्त्री.) गड़ने का काम, गड़ने का पारितोषिक।

गड़ाना-(हि. क्रि.स.) गड़ने का काम दूसरे से कराना, गड़वाना, कठिन जान पड़ना।

गड़िया-(हि. पुं.) किसी वस्तु को गड़कर बनानेवाला।

गढ़ी-(हि. स्त्री.) छोटा गड़।

गढ़ैया-(हि. वि.) गड़नेवाला, बनानेवाला।

गढ़ीई-(हि. पुं.) गड़पति।

गण-(सं. पुं.) समूह, ढेर, प्रमथ, शिव-सेवक, अनुचर, जत्था, श्रेणी, कोटि, वनियों का समूह, तीन गुल्मों का सेना-विभाग, एक असुर का नाम, छंदःशास्त्र में तीन वर्णों का समूह जो लघु-गुरु के भेद से आठ प्रकार का होता है।

गणक-(सं. पुं.) देवज्ञ, मुहूर्तज्ञ, ज्योतिषी।

गणकार-(सं. पुं.) गणना करनेवाला, भीमसेन।

गणतंत्र-(सं. पुं.) राजनीतिक पद्धति या व्यवस्था जिसमें जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन होता है।

गणता-(सं. स्त्री.) समूह, ढेर।

गणदेवता-(सं. पुं.) समूहचारी देवता।

गणद्रव्य-(सं. पुं.) सर्व साधारण की सम्पत्ति।

गणन-(सं. पुं.) गणना, गिनती, निश्चय।

गणना-(सं. स्त्री.) गिनती, हिसाब, संख्या।

गणनाय-(सं. पुं.) शिव, महादेव, गणेश।

गणनायक-(सं. पुं.) देखें 'गणनाय'।

गणनायिका-(सं. स्त्री.) दुर्गा, भगवती।

गणनीय-(सं. वि.) गिनने योग्य, प्रसिद्ध।

गणपति-(सं. पुं.) गणेश, शिव।

गणमुख्य-(सं. पुं.) गाँव का मुखिया।

गणराज्य-(सं. पुं.) जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासित राज्य।

गणाचार्य, गणाधिप, गणाध्यक्ष-(सं. पुं.) गणों के स्वामी, शिव, गणेश, लोकगुरु, शिक्षक।

गणिका-(सं. स्त्री.) केश्या, रंडी।

गणिकारी-(सं. स्त्री.) गिनियार का वृक्ष जो वसन्त में फूलता है, दशमूल।

गणित-(सं. पुं.) गणन, गणना, गिनती, अङ्कशास्त्र, हिसाब जिसके अन्तर्गत व्यक्त गणित और बीजगणित है;

-ज्ञ-(पुं.) गणित शास्त्र जाननेवाला, ज्योतिषी।

गणेश्का-(सं. स्त्री.) कुटनी, दूती।

गणेश-(सं. पुं.) पार्वतीनन्दन जिनका सिर हाथी का है, (शुभ कार्यों के आरंभ करने में पहिले इनका ध्यान और पूजन किया जाता है); -क्रिया-(स्त्री.) योग की क्रिया जिसमें गुदा में अँगुली आदि की सहायता से मल निकाल दिया जाता है;

-चतुर्थी-(स्त्री.) भाद्रपद तथा माघ की शुक्ल चतुर्थी जिस दिन गणेश का व्रत और पूजन किया जाता है।

गण्य-(सं. वि.) गिनने योग्य, प्रतिष्ठित, माननीय; -मान्य-(वि.) सम्मानित।

गत-(सं. वि.) गया हुआ, वीता हुआ, प्राप्त, पाया हुआ, समाप्त, पूरा किया हुआ, पतित, ज्ञात, रहित, मरा हुआ;

(स्त्री.) अवस्था, दशा, वेश, दुर्गति, नाश, दुर्दशा, रंगरूप, नाचने-गाने का ढंग, सितार आदि बजाने में कुछ बोलों का क्रमबद्ध मिलान; (मुहा.)-बनाना-दुर्दशा करना।

गतका-(हि. पुं.) लकड़ी खेलने का डंडा जिसके ऊपर चमड़े का खोल चढ़ा रहता है।

गतकार्य-(सं. वि.) जिसका कार्य नष्ट हो गया हो।

गतकाल-(सं. पुं.) वीता हुआ समय।

गतकीर्ति-(सं. वि.) जिसका यश समाप्त हो गया हो।

गतनासिका-(सं. वि.) बिना नाक का, नकटा।

गतपुण्य-(सं. वि.) जिसका पुण्य नष्ट हो गया हो।

गतप्रभ—(सं. वि.) निष्प्रभ, तेज-रहित ।
 गतप्राण—(सं. वि.) मृत, मरा हुआ ।
 गतबुद्धि—(सं. वि.) निर्बोध, अज्ञान ।
 गतरात्रि—(सं. स्त्री.) बीती हुई रात ।
 गतलज्ज—(सं. वि.) निर्लज्ज ।
 गतश्री—(सं. वि.) जिसकी शोभा नष्ट हो गई हो, श्रीहृत ।
 गताक्ष—(सं. वि.) नेत्रहीन, अन्धा ।
 गतागत—(सं. पुं.) आवागमन, याता-यात; (वि.) आया-गया ।
 गतायु—(सं. वि.) जिसकी आयु शेष न हो, मरनेवाला ।
 गतार्थ—(सं. वि.) जिसका अर्थ ज्ञात हो, चरितार्थ ।
 गति—(सं. स्त्री.) गमन, चाल, परिणाम, ज्ञान, प्रमाण, भुक्ति, मोक्ष, कर्मफल, दशा, यात्रा, स्वरूप, स्थान, ग्रहों की चाल, पहुँच, रूप, रंग, वेप, उपाय, सहारा, ढंग, चेष्टा, रीति, मृत्यु के बाद जीवात्मा का अन्य शरीर धारण करना; -भंग—(पुं.) त्रम का टूटना; -विज्ञान, -ज्ञास्त्र—(पुं.) विज्ञान को वह शाखा जिसमें भौतिक पदार्थों की गति, ऊर्जा आदि का विवेचन होता है; -विधि—(स्त्री.) चेष्टा, सक्रियता; -शील—(वि.) जिसमें गति हो; -हीन—(वि.) गति से रहित ।
 गतिक—(सं. पुं.) गति, अवस्था, आश्रय ।
 गतिया—(हिं. पुं.) तबला बजानेवाला; (स्त्री.) बच्चों के गले में बाँधने का रुमाल ।
 गत्ता—(हिं. पुं.) कागज की कई परतों को साटकर बनी हुई दपती ।
 गत्तालखाता—(हिं. पुं.) अप्राप्य ऋण, बढ़ा-खाता ।
 गत्वर—(सं. वि.) चलनेवाला, धणिक ।
 गध, गत्य—(हिं. पुं.) पूंजी, जमा, माल, धुंड, समुदाय ।
 गधना—(हिं. क्रि. म.) एक को दूसरे से मिलाना, आपस में नूँथना, बातें बनाना ।
 गद—(सं. पुं.) रोग, मेघ का गद्गद, कुष्ठ, कोढ़, श्रीकृष्ण के छोटे भाई का नाम, राम की सेना का एक बन्दर, एक अमुर का नाम; (हिं. पुं.) देवों 'गद्ग' ।
 गदका—(हिं. पुं.) देव 'गताका' ।
 गदकारा—(हिं. वि.) कोमल, गुलगुला ।
 गदगद—(सं. पुं.) गद्गद भाषण, पुलकित वचन ।
 गदना—(हिं. क्रि. म.) बोलना, बलना ।
 गदर—(अ. पुं.) विद्रोह, नगदत, बलना ।

गदरा—(हिं. पुं.) हरी मटरफली, हरा चना आदि के दाने; (वि.) ग्रधपका ।
 गदराना—(हिं. क्रि. अ.) पकने के समीप पहुँचना, जवानी में बंगों का भरना, आँख में कीचड़ आना ।
 गदहपचीसी—(हिं. स्त्री.) सोलह वर्ष से पचीस वर्ष तक की अवस्था जब मनुष्य की बुद्धि कम अनुभव होने के कारण अपरिपक्व रहती है ।
 गदहपन—(हिं. पुं.) मूर्खता ।
 गदहपूरना—(हिं. स्त्री.) पुनर्नवा नाम का पौधा जिसका औषध में प्रयोग होता है ।
 गदहलोट—(हिं. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
 गदहा—(हिं. पुं.) गदम, घोड़े के आकार का पर इससे छोटा एक चौपाया; (सं. पुं.) बंध, चिकित्सक; (वि.) मूर्ख; (मुहा.) गदहे का हल चलाना—नाश को प्राप्त होना ।
 गदहिला—(हिं. पुं.) ईट, नुर्जी इत्यादि होनेवाले गदहे ।
 गदांबर—(सं. पुं.) मेघ, बादल ।
 गदा—(सं. स्त्री.) एक प्राचीन अस्त्र जिसमें लोहे के डंडे के छोर पर एक बड़ा लट्टू लगा होता था, बड़प्पन ।
 गदाग्रज—(सं. पुं.) बलराम, श्रीकृष्ण ।
 गदाधर—(सं. पुं.) विष्णु, भगवान; (वि.) गदा धारण करनेवाला ।
 गदापाणि—(सं. पुं.) विष्णु ।
 गदानद—(हिं. अव्य.) एक पर एक लगातार मार ।
 गदाला—(हिं. पुं.) हाथी की पीठ पर रखने का गद्दा, मोटा ओढ़ना वा बिछोना ।
 गदित—(सं. वि.) कहा हुआ, कथित ।
 गदेल्ला—(हिं. पुं.) रुई आदि से बरा हुआ बहुत मोटा बिछोना, बालक ।
 गदोरी—(हिं. स्त्री.) हाथ की हनेली ।
 गद्गद—(सं. पुं.) अव्यक्त शब्द, अस्फट, गद्गद, अति अधिक हृष, प्रेम इत्यादि के कारण गला भर आना; (वि.) प्रसन्न, आनन्दित, पुलकित; -कंड—(पुं.) भाव से बरा स्वर; -स्वर—(पुं.) गद्गदकंड ।
 गद्ग—(हिं. पुं.) कोमल वस्तु पर किसी पदार्थ के गिरने का गदर, अजीर्ण के कारण पेट का नाचपन ।
 गद्गर—(हिं. वि.) अपक्व, अपक्वता; (पुं.) गद्गा ।
 गद्गा—(हिं. पुं.) रुई आदि से बरा हुआ मोटा बिछोना, गदेल्ला, हाथी की पीठ पर रखने का दाट का मोटा बिछोना जिमके ऊपर हीदा रखा जाता है, घान, (पनाल, रुई आदि) का घान,

किसी कोमल पदार्थ पर मार ।
 गद्दी—(हिं. स्त्री.) छोटा गद्दा, वह गद्दा जो घोड़े, ऊँट आदि की पीठ पर रखा जाता है, हाथ या पैर की हुयेली, व्यवसायी का बैठने का स्थान, सिंहासन, बड़ अधिकारी आदि का पद, किसी राजवंश की पीढ़ी या आचार्यकी गिण्य-परम्परा; -नवीन—(वि.) जिसे सिंहासन प्राप्त हो; -नवीनी—(स्त्री.) सिंहासनारोहण; (मुहा.) -चलना—वंश-परंपरा का द्रम जारी रहना; -पर बैठना—सिंहासन पर बैठना ।
 गद्य—(सं. वि.) कथनीय, कहने योग्य; (पुं.) छन्दरहित वाक्य, काव्य-रक्षण-रहित पद-समूह, संगीत में गद्य राग का एक भेद; -ज्ञाव्य—(पुं.) गद्य में काव्यात्मक रचना ।
 गद्यात्मक—(सं. वि.) गद्य में रचा हुआ ।
 गधा—(हिं. पुं.) गदम, गदहा; -पन—(पुं.) गुत्थता, वेकफकी; (मुहा.) गधे को बाप बनाना—बाम निकालने के लिए गुस्से वा हीन की नो गमानद करना; गधे से हल चलवाना—वित्तुल उजाड़ देना ।
 गधी—(हिं. स्त्री.) मादा गधा, गदही ।
 गनक—(हिं. पुं.) देवों 'गणक' ।
 गनगन—(हिं. स्त्री.) काँपने की अवस्था ।
 गनगनाना—(हिं. क्रि. अ.) शीत में शरीर का काँपना या बरखराना ।
 गनगीर—(हिं. स्त्री.) वैश्व मातृयादृतीया जिन दिन गणेश और गौरी की पूजा होती है ।
 गनती—(हिं. स्त्री.) देवों 'गिनती' ।
 गनना—(हिं. क्रि. म.) गणना करना, गिनना ।
 गननायक—(हिं. पुं.) देवों 'गणनायक' ।
 गनपति—(हिं. पुं.) देवों 'गनपति' ।
 गनाना—(हिं. क्रि. अ.) गिनने का काम दूसरे से कराना ।
 गनिका—(हिं. स्त्री.) गणिका, गेश्या ।
 गनिकारी—(हिं. स्त्री.) नगी की बच्चा का एक गडियार पंजा कितनी पतितों बच्चा की बच्चा होती है ।
 गनमन्त—(अ. स्त्री.) गनोप की बच्चा ।
 गन्य—(हिं. पुं.) शिर, ऊत ।
 गन—(हिं. स्त्री.) गद्दी-नगी उपर-ऊपर की गन, नम की प्रसन्न करने-वाली बच्चा, बच्चा, गद्ग गनगनार; (पुं.) गद्दी से निकलने पर गन्य; -गन—(अव्य.) गद्दी-नगी; -गन—(स्त्री.) उपर-ऊपर की गन; -गन—(पुं.) गद्दी-

झूठी बात का प्रचार होना; -भारना या हाकना-डींग मारना, झूठी-मूठी बातें करना; -लड़ाना-गपशप करना ।

गपकना-(हि. क्रि. स.) चटपट निगलना, जल्दी से खाना ।

गपड़चौथ-(हि.पुं. वा स्त्री.) व्यर्थ की बात-चीत जो चार आदमी मिलकर करते हैं ।

गपना-(हि.क्रि.अ.) गप मारना, बकबक करना ।

गपागप-(हि. अव्य.) गपगप ।

गपिया, गपिहा-(हि. वि.) गप मारने-वाला, झूठ बोलनेवाला ।

गपोड़, गपोड़ा, गपोड़िया-(हि. पुं.) झूठी बातें करनेवाला ।

गपोड़वाजी-(हि. स्त्री.) झूठी बकवाद ।

गपोड़ी-(हि. वि.) गप्पी ।

गप्प-(हि. स्त्री.) देखें 'गप' ।

गप्पी-(हि. वि.) बकवादी, डींग मारने-वाला, झूठ बोलनेवाला ।

गप्फा-(हि. पुं.) बहुत बड़ा ग्रास, बड़ा कौर, लाभ ।

गफ-(हि. वि.) घना, ठस, घनी विनावट का ।

गफलत-(अ. स्त्री.) असावधानी, लापरवाही ।

गददी-(हि. पुं.) एक प्रकार का छोटा पीघा; (वि.) सुस्त, मूर्ख, बुद्धिहीन ।

गदह-(हि. वि.) मूर्ख, जड़, बुद्धिहीन ।

गदन-(अ. पुं.) दूसरे के सीपे हुए घन को हड़प लेने का अपराध ।

गदर-(हि.पुं.) जहाज का सब से ऊपर का पाल ।

गदरगंड-(हि. पुं.) अज्ञानी, मूर्ख ।

गदरहा-(हि. वि.) गोबर लगा हुआ ।

गदरा-(हि. वि.) अहंकारी, धमंडी ।

गभ-(सं. पुं.) गग, योनि ।

गभस्ति-(सं. पुं.) किरण, प्रकाश, सूर्य, जिय, अग्नि की स्त्री, स्वाहा, अंगुली, हाथ, बांह; -गभि-(पुं.) सूर्य; -मान्-(पुं.) एक पाताल, एक द्वीप; (वि.) किरणयुक्त ।

गभीर-(सं. वि.) गहरा, गहन, घना, दुर्गंध, कठिन, प्रचण्ड ।

गभुआर-(हि. वि.) बच्चों का गर्भ का बाल, जिन बाल का मुण्डन न हुआ हो, नादान, छोटा, अनजान ।

गभ-(सं. पुं.) गमन, यात्रा, पहुँच, उभोग, मैथुन; (अ. पुं.) दुःख, शोच, शिज; (मुहा.) -गाना-सहन करना, धीरज धरना ।

गमक-(सं. वि.) गमयिता; जानेवाला, बोधक, बतलानेवाला; (हि.स्त्री.) संगीत में स्वरभेद, तबले का गंभीर शब्द, सुगन्ध ।

गमकना-(हि. क्रि. अ.) सुगंध निकलना, महँकना ।

गमकौला-(हि.वि.) सुगन्धित महँकनेवाला ।

गमखोर-(अ. वि.) सहनशील, धीर ।

गमखोरी-(अ. स्त्री.) सहनशीलता ।

गमत-(सं. पुं.) मार्ग, व्यवसाय ।

गमथ-(सं. पुं.) पथिक, बटोही ।

गमन-(सं. पुं.) प्रस्थान, प्रयाण, यात्रा, उपभोग, मैथुन, रथ, गाड़ी इ० ।

गमना-(हि. क्रि. अ.) चले जाना, दुःखी होना, ध्यान देना ।

गमनीय-(सं. वि.) गम्य, जाने योग्य ।

गमला-(हि. पुं.) बालटी की आकृति-वाला मिट्टी का आधार जिसमें छोटे-छोटे फूलदार पौधे लगाये जाते हैं ।

गमागम-(सं. पुं.) आना-जाना ।

गमाना-(हि. क्रि. स.) गँवाना, खोना ।

गमार-(हि. पुं.) गँवार, देहाती, गाँव में रहनेवाला ।

गमी-(अ.स्त्री.) मृत्यु-शोक, मातम, मरण ।

गम्य-(सं. वि.) गमनीय, जाने योग्य ।

गम्यमान-(सं.वि.) जाने योग्य ।

गम्या-(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसके साथ संभोग करना शास्त्र के विरुद्ध नहीं है ।

गयंद-(हि. पुं.) बड़ा हाथी, दोहे का एक भेद जिसमें तेरह गुरु और बाइस लघु वर्ण होते हैं ।

गय-(सं. पुं.) रामचन्द्र की सेना का एक वन्दर, घन, सन्तान, घर, आकाश, प्राण, एक असुर का नाम, गया तीर्थ ।

गयशिर-(सं. पुं.) अन्तरिक्ष, आकाश, गया के समीप का एक पर्वत ।

गया-(सं. पुं.) विहार का एक तीर्थ जहाँ हिन्दू पिण्डदान करते हैं; (मुहा.) -करना-गया में जाकर पितरों को पिण्डदान करना; (क्रि.अ.) 'जाना' क्रिया का भूतकाल का रूप; (मुहा.)-गुजरा या बीता-हीन दशा को पहुँचा हुआ ।

गयावाल-(हि. पुं.) गया तीर्थ का पण्डा ।

गरंड-(हि. पुं.) आटा पीसने की चक्की के चारों ओर बनाई हुई मेड़ ।

गर-(सं. पुं.) विप, वत्सनाम, बछनाम, रोग; (हि.पुं.) गरदन, गला; (फा.प्रत्य.) बनानेवाला; यथा-ब्राजीगर, कलईगर इत्यादि ।

गरगज-(हि. पुं.) गड़ की भीत, तोप

रखने का शिखर जो गड़ की भीत पर बना रहता है, युद्ध की सामग्रियाँ रखने का टीला, पटरों से बनी हुई नाव की छत, फाँसी की टिकठी; (वि.) अति विशाल, बहुत बड़ा ।

गरज-(हि. स्त्री.) बहुत गंभीर शब्द, वादल सिंह आदि का शब्द ।

गरज-(अ. स्त्री.) जरूरत, मतलब, प्रयोजन; -मंद-(वि.) जिसे गरज हो; (मुहा.) -का बाबला-अपना स्वार्थ साधने के लिए सब कुछ करने को तैयार ।

गरजना-(हि.क्रि.अ.) बड़ा गंभीर शब्द करना, तड़कना, फटना; (वि.) गंभीर शब्द करनेवाला ।

गरट्ट-(हि.पुं.) समूह, झुण्ड ।

गरद-(सं. पुं.) विष देनेवाला; (हि. स्त्री.) गरदा, धूल ।

गरदन-(फा.स्त्री.) घड़ और सिर जोड़ने-वाला अंग, ग्रीवा; (मुहा.)-उठाना-विरोध करना; -काटना-सिर काट लेना, अपमानित करना; -झुकना-अधीन या लज्जित होना; -नापना-गरदन पकड़कर निकाल बाहर करना ।

गरदना-(हि. पुं.) मोटी गरदन, झटका या धौल जो गरदन पर पड़े ।

गरदनियाँ-(हि. स्त्री.) गरदन पकड़कर किसी मनुष्य को बाहर निकालने की क्रिया ।

गरदनी-(हि. स्त्री.) कुंरते आदि का गला, गले का एक आभूषण, हँसुली, गरदनियाँ, घोड़े की गरदन पर बाँधने का कपड़ा, मल्ल-युद्ध की एक युक्ति ।

गरदा-(हि. पुं.) धूल, खाक, गर्द ।

गरदुआ-(हि. पुं.) पशुओं का एक रोग जिसमें उनका शरीर जकड़ जाता है ।

गरना-(हि.क्रि.अ.) गलना, गड़ना, निचुड़ना ।

गरनाल-(हि.स्त्री.) बहुत चौड़े मुँह की तोप ।

गरव-(हि.पुं.) देख 'गर्व', हाथी का मद ।

गरवई-(हि. स्त्री.) अभिमान, धमण्ड ।

गरवगहेला-(हि. वि.) गर्वी, अभिमानी ।

गरवाना-(हि. क्रि.अ.) अभिमान करना ।

गरवित-(हि. वि.) देखें 'गर्वित' ।

गरबौला-(हि. वि.) धमण्डी, अभिमानी ।

गरभ-(हि. पुं.) देखें 'गर्भ' ।

गरभाना-(हि. क्रि.अ.) गर्भिणी होना, गर्भिन होना, धान, गेहूँ आदि में बाल लगना ।

गरम-(फा. वि.) तप्त, उष्ण, जलता हुआ (वरतन आदि); -रुपड़ा-(पुं.) ऊनी वस्त्र; -खवर-(स्त्री.) वह खवर

जिसकी बहुत चर्चा हो; -चोट-(स्त्री.) तुरंत लगा घाव; -मसाला-(पुं.) घनियाँ, लवंग, जीरा आदि मिश्रित मसाले; -मिजाज-(वि.)जल्दी क्रुद्ध होनेवाला; (मुहा.)-हीना-क्रुद्ध होना।
 गरमागरम-(हिं. वि.) ताजा और गरम, तप्त।
 गरमागरमी-(हिं. स्त्री.) उत्साह, मुस्तैदी, लड़ाई-झगड़ा, कहा-सुनी।
 गरमाना-(हिं. क्रि. अ., स.) गरम होना, उमंग में आना, आवेश में आना, क्रोध करना, तपाना, ओटाना।
 गरमाहट-(हिं. स्त्री.) उष्णता, गरमी।
 गरमी-(फ्रा. स्त्री.) ताप, उष्णता, तेजी, क्रोध, आवेश, उमंग, उपवंश रोग, आतशक; (मुहा.)-निकलना या पचना -घन आदि का घमंड चूर होना।
 गररा-(हिं. पुं.) एक प्रकार का भूरे रंग का घोड़ा।
 गरराना-(हिं. क्रि. अ.) भयंकर ध्वनि करना, गरजना।
 गररी-(हिं. स्त्री.) सिरोही पक्षी।
 गरल-(सं. पुं.) विष, जहर, सर्प का विष; -घर-(पुं.) शिव, महादेव।
 गरसना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'ग्रसना'।
 गरह-(हिं. पुं.) देखें 'ग्रह'।
 गरहन-(हिं. पुं.) देखें 'ग्रहण'।
 गर्राव-(हिं. पुं.) चौपायों के गले में बांधने की रस्सी या फन्दा।
 गरा-(हिं. पुं.) देखें 'गला'।
 गराड़ी-(हिं. स्त्री.) घिरनी, चरखी, साँट।
 गराना-(हिं. क्रि. स.) गारने का काम दूसरे से कराना।
 गरारा-(हिं. वि.) गर्वयुक्त, प्रवल, प्रचंड, बलवान्; (पुं.) कुल्ली, कुल्ली करने की औपध, बड़ा थैला, चौड़ी मोहरी का पायजामा।
 गरारस-(हिं. पुं.) मास, कवर।
 गरारसना-(हिं. क्रि. स.) ग्रसना, कष्ट देना, दिक करना।
 गररिमा-(सं. स्त्री.) गुस्ता, गौरव, भारी-पन, महिमा, भार, अहंकार, घमण्ड, आठ सिद्धियों में से एक।
 गररियाना-(हिं. क्रि. स.) दुर्वचन कहना, गाली देना।
 गररियार-(हिं. वि.) वह मनुष्य या पशु जो जल्दी से अपने स्वान से न हटे, मट्ठर, गुस्ता, आलसी।
 गररियाल-(हिं. पुं.) ऊन रंगने का एक प्रकार का रंग।

गरिष्ठ-(सं. वि.) अत्यन्त गुरु, बहुत भारी, बहुत बड़ा, प्रतिष्ठित, सहज में न पचने योग्य।
 गररी-(हिं. स्त्री.) नारियल के फल के भीतर का गुदा, बीज के भीतर का कोमल भाग, मीमां।
 गररीब-(अ. वि.) निर्धन, धनहीन, अ-किचन, दीन-हीन; -गुरवा-(पुं.) दरिद्र लोग; -परवर-(वि.) गररीबों का पालन करनेवाला।
 गररीवाना-(अ. वि.) गररीब व्यक्ति की भांति या स्तर का।
 गररीवी-(अ. स्त्री.) दीनता, निर्धनता।
 गरू-(हिं. वि.) भारी, बड़े भार का, प्रतिष्ठित।
 गरूआई-(हिं. स्त्री.) गुस्ता, भारीपन।
 गरूआना-(हिं. क्रि. अ.) भारी होना।
 गरूड़-(सं. पुं.) विष्णु के वाहन जो पक्षिराज कहलाते हैं, एक प्रकार की सेना की व्यूह-रचना, छुपय छुद का एक भेद; -गामी-(पुं.) विष्णु, श्रीकृष्ण; -ध्वज-(पुं.) विष्णु, एक प्रकार का स्तम्भ जिसके माथ पर गरूड़ बना हो; -पाश-(पुं.) एक प्रकार का फन्दा या फास; -पुराण-(पुं.) अठारह पुराणों के अन्तर्गत सत्रहवाँ पुराण; -रत्न-(पुं.) गरूड़ का शब्द, एक वर्ण-वृत्त जिसमें सोलह अक्षर होते हैं; -व्यूह-(पुं.) गरूड़ की आकृति की एक सैन्य-रचना।
 गरूड़ाग्रज-(सं. पुं.) विनता के ज्येष्ठ पुत्र अरुण जो सूर्य के सारथी हैं।
 गरूत्मान्-(सं. पुं.) गरूड़।
 गरूवाई-(हिं. स्त्री.) देखें 'गरूआई'।
 गरू-(हिं. वि.) गुरु, भारी।
 गरूर-(अ. पुं.) गर्व, अभिमान।
 गरूरी-(अ. वि.) घमंडी, अभिमानी; (स्त्री.) अभिमान, घमंड।
 गरूरना-(हिं. क्रि. स.) घेरना, रोकना, छेकना।
 गरूरा-(हिं. पुं.) घेरा।
 गरूरी-(हिं. स्त्री.) गरड़ी, घिरनी।
 गरूयाँ-(हिं. स्त्री.) पशु के गले में बांधने का फन्दा, गर्राव।
 गर्भ-(सं. पुं.) बृहतरि के वंश में उत्पन्न एक ऋषि, मंगीत में एक ताल, बल, तांड, एक पर्यंत का नाम।
 गर्भर-(सं. पुं.) एक प्रकार का पत्तन वाजा।

गर्गरी-(सं. स्त्री.) दहेड़ी, मधानी, कलसी, गगरी।
 गर्ज-(सं. पुं.) हाथी का चिंगाड़, गर्जन, मेघ का शब्द।
 गर्ज-(हिं. स्त्री.) देखें 'गरज'।
 गर्जन-(सं. पुं.) जार का शब्द, भीषण ध्वनि, गरज, घोष, रोप; -तर्जन-(पुं.) गर्जना, घुमड़ना।
 गर्जमान-(सं. वि.) गरजनेवाला।
 गर्जना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'गरजना'; (सं. स्त्री.) गर्जन।
 गर्जित-(सं. वि.) भयंकर शब्द या गर्जन किया हुआ।
 गर्त-(सं. पुं.) भूमि का छिद्र, दरार, गड्ढा, घर, खं, एक नरक का नाम।
 गर्द-(फ्रा. स्त्री.) धूल, राख; -तार, -तोर-(वि.) ऐसा कणड़ा जो जल्दी मिला न हो।
 गर्दन-(हिं. स्त्री.) देखें 'गरदन'।
 गर्दभ-(सं. पुं.) रासभ, तार, गदहा।
 गर्दभी-(सं. स्त्री.) गदही, सफेद भट-कटैया।
 गर्नाल-(हिं. स्त्री.) देखें 'गरनाल'।
 गर्भ-(सं. पुं.) पेट के भीतर का वच्चा, भ्रूण, गर्भाशय, कुक्षि, कोण, पनस, नाटक का सन्निभेद, उदर, पेट, भीतरी भाग, अन्न, अग्नि, पुत्र; -कार, कारी-(वि.) गर्भाधान करनेवाला; -केसर-(पुं.) फूल के मूल जैसे रेशे जो गर्भनाल के भीतर होते हैं; -कोष-(पुं.) गर्भाशय, वच्चेदानी; -क्षय-(पुं.) गर्भ का नाश; -गूह-(पुं.) पेट के बीच की कोठरी, घर का मध्य भाग, आंगन, मन्दिर के बीच की वह प्रधान कोठरी जिसमें देवता की प्रतिमा रखी जाती है; -नाल-(स्त्री.) फूलों के भीतर की वह पतली नाल जिसके निचे पर गर्भ-केसर होता है; -पत्र-(पुं.) कोमल पत्ता, कोपल; -पात-(पुं.) गर्भ का अपरिपक्व अवस्था में गिर जाना; -भवन-(पुं.) प्रगुतिक-भूट, मोरी; -मास-(पुं.) वह महिना जिसमें गर्भाधान हो; -यती-(स्त्री.) वह स्त्री जिसके पेट में वच्चा हो, गर्भिणी; -व्यूह-(पुं.) पेट में सेना की एक प्रकार की रचना; -संधि-(स्त्री.) नाटक के पान प्रकार की मंगिरियों में से एक; -स्य-(वि.) जो गर्भ में स्थित हो; -स्यान-(पुं.) गर्भाशय; -स्य-(पुं.) घर गर्भ में वच्चा

गर्भ गिरना; -हत्या-(स्त्री.) भ्रूण-हत्या, गर्भपात ।
 गर्भक- (सं.पुं.) अभिनय के अङ्क का एक भाग जिसमें केवल एक ही दृश्य होता है ।
 गर्भाधान- (सं.पुं.) सोलह संस्कारों में से पहिला संस्कार जो गर्भ आने पर होता है, गर्भ-धारण ।
 गर्भाशय- (सं.पुं.) स्त्रियों के पेट में गर्भ धारण करने का स्थान या थैली, वच्चादानी ।
 गर्भिणी- (सं.वि.स्त्री.) गर्भवती, गामिन ।
 गर्भित- (सं.वि.) पूर्ण, पूरित, भरा हुआ ।
 गर्भ- (फा. वि.) देखें 'गर्म' ।
 गर्गी- (हि. वि.) लाह के रंग का; (पुं.) इस रंग का घोड़ा, लाही रंग का कबूतर, चरखी, गड़ारी, सतलज नदी का नाम ।
 गर्व- (सं.पुं.) अहंकार, अभिमान, घमंड ।
 गर्ववंत- (हि. वि.) अभिमानी, घमण्डी ।
 गर्वाना- (हि. क्रि. अ.) गर्व करना, घमण्ड करना ।
 गर्वित- (सं. वि.) गर्वयुक्त, अभिमानी ।
 गर्विता- (सं. स्त्री.) वह नायिक जिसको अपन रूप-गुण का तथा पति के प्रेम का घमण्ड हो ।
 गर्विष्ठ- (सं. वि.) गर्वयुक्त, अहंकारी, घमंडी ।
 गर्वी- (हि. वि.) अहंकारी, घमण्डी ।
 गर्वीला- (हि. वि.) अभिमान से भरा हुआ, घमंडी ।
 गर्हण- (सं. पु.) निन्दा ।
 गर्हणा- (सं. स्त्री.) देखें 'गर्हण' ।
 गर्हणीय- (सं. वि.) निन्दनीय, निन्दा करने योग्य ।
 गर्हा- (सं. स्त्री.) निन्दा ।
 गर्हित- (सं. वि.) निन्दित, दूषित ।
 गर्ही- (सं. वि.) निन्दा करनेवाला ।
 गर्ह्य- (सं. वि.) अघम, निन्दनीय, नीच ।
 गर्लश- (हि. पुं.) वह सम्पत्ति जिसका स्वामी मर गया हो और उसका कोई उत्तराधिकारी न हो ।
 गर्ल- (सं.पुं.) गला, कण्ठ; (हि.पुं.) गाल ।
 गर्लकंबल- (सं. पुं.) गाय के गले की लटकती हुई झालर ।
 गर्लका- (हि. पुं.) एक प्रकार का फोड़ा जो हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग पर होता है ।
 गर्लकोड़ा- (हि.पुं.) एक प्रकार का कोड़ा या चाबुक, मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
 गर्लगंज- (हि. पुं.) कोलाहल, हल्ला ।
 गर्लगंजना- (हि. क्रि. अ.) शोर करना,

कोलाहल करना ।
 गर्लगंड- (सं. पुं.) गले का एक रोग, गण्डमाला, घेथा रोग ।
 गर्लगल- (हि. पुं.) मना की जाति की एक चिड़िया, एक प्रकार का बड़ा नीवू जो बहुत खट्टा होता है ।
 गर्लगला- (हि. वि.) आर्द्र, भीगा हुआ ।
 गर्लगलाना- (हि. क्रि. अ.) भिगाना, आद्र करना ।
 गर्लगलिया- (हि. स्त्री.) सिरोही के प्रकार का एक पक्षी ।
 गर्लगजना- (हि. क्रि. अ.) आनन्द से गरजना, गाल बजाना ।
 गर्लगुच्छा- (हि. पुं.) देखें 'गलमुच्छा' ।
 गर्लगथना- (हि. वि.) हृष्टपुष्ट, जिसका शरीर भरा तथा गाल फूले हों ।
 गर्लग्रह- (सं. पुं.) मछली का काँटा जो गले में बँस जाता है, सहज में न हटनेवाली आपत्ति ।
 गर्लग्राह- (सं. पुं.) मगर ।
 गर्लगुमनी- (हि. स्त्री.) कान का गाल तक लटकनेवाला आभूषण ।
 गर्लगुष्ट- (हि. स्त्री. वा पुं.) गलफड़ा ।
 गर्लगुदंडा- (हि. पुं.) सर्वदा साथ देनेवाला, गले का हार, रूमाल या कपड़े की पट्टी जो हाथ की चोट या घाव पर सहारा देने के लिये गले से बाँधी जाती है ।
 गर्लगोड़, गर्लगोत- (हि. स्त्री.) एक बल को दूसरे बल के गले में लगाकर बाँधन की रस्सी, गले का हार ।
 गर्लगंध- (हि. पुं.) हाथी के गले में पहिने की लोहे की झूल या सिकड़ी ।
 गर्लगंत- (हि. वि.) अचेत, वसुध ।
 गर्लगंत- (हि. पुं.) देख 'गलेश' ।
 गर्लगत- (अ. वि.) जो ठीक न हो, अशुद्ध ।
 गर्लगतकिया- (हि. पुं.) गले के नीचे रखने का कोमल गोल तकिया ।
 गर्लगत-फहमी- (फा. स्त्री.) गलत समझ, भ्रम ।
 गर्लगतान- (हि. वि.) लुढ़कता हुआ, जर्जर, फटा-पुराना ।
 गर्लगती- (अ. स्त्री.) भूल, चूक ।
 गर्लगथन- (ना)- (हि. पुं.) वकरियों की गरदन की दोनों ओर लटकती हुई थैलियाँ ।
 गर्लगथली- (हि. स्त्री.) वन्दरों के गाल के नीचे की थैली जिसमें वे खान की वस्तु भर लेते हैं ।
 गर्लगदेश- (सं. पुं.) ग्रीवा, गला, गरदन ।
 गर्लगन- (सं. पुं.) गलकर गिरना, पतन ।
 गर्लगनहा- (हि. पुं.) हाथी के नख का एक रोग जिसमें थैलें जड़ जाते हैं ।

गलगना- (हि. क्रि. अ.) किसी पदार्थ का घनत्व नष्ट होना, जीर्ण होना, शरीर का दुर्बल होना, किसी काम का न रहना, ठंडक से हाथ-पर ठिठुरना, निष्फल होना, शरीर में सड़न होना ।
 गलगनीय- (सं. वि.) गलने या सड़ने योग्य ।
 गलगफड़ा- (हि. पुं.) जल-जन्तुओं में पानी के भीतर साँस लेने का अवयव जो मस्तक के दोनों ओर रहता है, गालों के दोनों जवड़ों के बीच का मांस ।
 गलगफाँस- (हि. स्त्री.) मलखंभ का एक व्यायाम ।
 गलगफाँसी- (हि. स्त्री.) गले की फाँसी, कण्ठदायक काय, जजाल ।
 गलगफूट- (हि. स्त्री.) बड़बड़ाने का अभ्यास ।
 गलगफला- (हि. वि.) जिसका गाल या गला फूला हो; (पुं.) गाल या गला फूलने का एक रोग ।
 गलगवंदनी- (हि. स्त्री.) गले का एक गहना ।
 गलगवल- (हि. पुं.) कोलाहल, गड़बड़ी, खलवली ।
 गलगवाँही, गलगवहियाँ- (हि. स्त्री.) गले में प्रेम से बाँह डालना ।
 गलगभंग- (सं. पुं.) गले का एक रोग, स्वरभंग ।
 गलगसंदरी- (हि. स्त्री.) गाल बजाना जो शिवजी के पूजन में किया जाता है, गाल बजाना, व्यर्थ की गप मारना ।
 गलगमुच्छा- (हि. पुं.) दोनों गालों पर बढ़ाये हुए बाल ।
 गलगमुद्रा- (सं. स्त्री.) देखें 'गलगसंदरी' ।
 गलगमेखला- (सं. स्त्री.) गले का हार, माल, गलगवाना- (हि. क्रि. स.) गलाने का काम दूसरे से कराना ।
 गलगलगन- (सं. वि.) गले से लिपटा हुआ ।
 गलगलगत- (सं. पुं.) मयूर, मोर ।
 गलगलुंडी- (सं. स्त्री.) जीभ की जड़ के पास गले के भीतर होनेवाला एक रोग जिसमें मांस का टुकड़ा निकल आता है ।
 गलगसिरी- (हि. स्त्री.) गले में पहिने का एक आभूषण ।
 गलगसुआ- (हि. पुं.) गाल के नीचे का भाग सूजन का एक रोग ।
 गलगसुई- (हि. स्त्री.) गलत किया ।
 गलगस्तन- (सं. पुं.) वकरे के गले के दोनों ओर लटकती हुई स्तन के आकार की थैली, गलगथन ।
 गलगहंड- (हि. पुं.) गला फूलने का रोग, घेथा ।
 गलगही- (हि. स्त्री) नाव का अगला ऊपरी भाग ।
 गला- (हि. पुं.) शरीर का वह भाग जो

सिर को धड़ से जोड़ता है, गलदेश, गरदन, कंठ, गले के भीतर की नाली जिसमें से शब्द निकलता है और आहार पेट के भीतर जाता है, कंठस्वर, गले का शब्द, कुरते, अंगरखे इत्यादि का गले पर का भाग, पात्र का ऊपरी पतला भाग; (मूहा.) -कटना-खून किया जाना, बड़ी हानि होना; -काटना-बहुत हानि पहुँचाना, गले में खुजली उत्पन्न करना; -खलना-अवरुद्ध आवाज या स्वर का साफ हो जाना; -धुटना-साँस लेने में कष्ट होना; -घाटना-गला दवा कर मार डालना; -छुड़ाना-परेशानी से अपनी जान बचाना; -छूटना-छुटकारा मिल जाना; -दवाना-दवाव डलकर कोई काम कराना; -फँसना-ऋण-ग्रस्त होना, संकट में फँसना; -फाड़ना-वेग से चिल्लाना; गले का द्वार-अत्यन्त प्रिय व्यक्ति या वस्तु; गले के नीचे उतरना-मन म वैठ जाना; गले पड़ना-इच्छा नहीते हुए मिल जाना; गले मड़ना-हठ करके देना; गले मिलना या लगना-आलिंगन करना; गले लगाना-आलिंगन करना ।

गलाऊ-(हिं. वि.) जो गलता हो, गलने-वाला ।

गलाना-(हिं. क्रि. स.) गलने में प्रवृत्त करना, पिघलाना, (कोठी) धँसाना, रुपए खर्च करना ।

गलानि-(हिं. स्त्री.) देखें 'गलानि' ।

गलावट-(हिं. स्त्री.) गलने का भाव या क्रिया, गलनेवाली वस्तु ।

गलित-(सं. वि.) भ्रष्ट, ध्वस्त, पतित, द्रवित, गला हुआ, नीति-भ्रष्ट, महा-पातकी, जीण, खंडित, परिपक्व, जो पुराना हो गया हुआ; -कुष्ठ-(पुं.) वह कोढ़ का रोग जिसमें अंग गलगल कर गिरने लगते हैं; -यौबना-(स्त्री.) ढलती जवानी की स्त्री ।

गलिया-(हिं. स्त्री.) चक्की का छेद जिसमें पीसने के लिये अन्न डाला जाता है; (वि.) मट्ठर, आलसी ।

गलियारा-(हिं. पुं.) छोटी गली, तंग या संकीर्ण मार्ग ।

गलियारी-(हिं. स्त्री.) मार्ग, गली ।

गली-(हिं. स्त्री.) पतला मार्ग जो घरों की दो पंक्तियों के बीच में रहता है, छोटा मोहल्ला, कुरा; (मूहा.)-गली मारा फिरना-जीविका प्राप्त करने के लिये

इधर-उधर घूमना ।

गलीचा-(हिं. पुं.) सूत या ऊन का बना मोटा बिछौना ।

गलीज-(अ. वि.) गंदा, मैला; (पुं.) कूड़ा-करकट, गंदगी ।

गलेबाज-(हिं. वि.) सुरीले शब्द का, अच्छा गानेवाला ।

गलैचा-(हिं. पुं.) देखें 'गलीचा' ।

गलौआ-(हिं. पुं.) बन्दरों के गले के भीतर की थैली जिसमें वे खाने की वस्तु मर लेते हैं ।

गल्प-(हिं. पुं, स्त्री.) छोटी कहानी, मिथ्या प्रवाद, डींग ।

गल्ल-(हिं. पुं.) गाल ।

गल्लई-(हिं. पुं.) गल्ले के रूप में दिया हुआ खेत का लगान, बँटाई ।

गल्ला-(हिं. पुं.) कोलाहल; (अ. पुं.) अनाज, रोजाना विश्वी की आमदनी ।

गवँ-(हिं. स्त्री.) आश्रय, घात, अवसर; -से-(अव्य.) अवसर देखकर ।

गवन-(हिं. पुं.) प्रस्थान, चलना, जाना, बवू का पति के घर पहिले जाना, गौना; -चार-(पुं.) गौने की विधि ।

गवनना-(हिं. क्रि. अं.) प्रस्थान करना, जाना ।

गवना-(हिं. पुं.) बवू का पहले-पहल पति के घर जाना, गौना ।

गवय-(सं. पुं.) गाय की जाति का एक पशु, नील गाय, रामजी की सेना के एक बन्दर का नाम, एक प्रकार का छन्द ।

गवल-(सं. पुं.) जंगली भैंसा, अरना ।

गवाना-(हिं. क्रि. स.) नष्ट करना, खोना ।

गवाक्ष-(सं. पुं.) झरोखा, छोटी खिड़की, रामजी के सेना का एक वानर सेनापति ।

गवाख-(हिं. पुं.) देखें 'गवाक्ष' ।

गवामृत-(सं. पुं.) गाय का दूध, गो-दुग्ध ।

गवादान-(सं. पुं.) गोमांस खानवाला, गोमक्षक ।

गवास-(हिं. पुं.) कसाई, हत्यारा ।

गवाह-(फा. पुं.) न्यायालय में मुकदमे का साक्षी ।

गवाही-(फा. स्त्री.) गवाह का वयान या कथन, साक्ष्य ।

गविष्ठ-(सं. वि.) स्वर्गस्थित; (पुं.) सूर्य ।

गवोवा-(सं. पुं.) साँड़, विष्णु ।

गवेजा-(हिं. पुं.) गपशप, वार्तालाप ।

गवेधु-(सं. पुं.) एक प्रकार का घान्य ।

गवेष्क-(सं. पुं.) लाल मिट्टी, गेरू ।

गवेल-(हिं. वि.) गँवार, देहाती ।

गवेप, गवेपणा-(सं. पुं, स्त्री.) अन्वेषण, खोज ।

गवेपी-(सं. वि.) खोज करनेवाला ।

गवहाँ-(हिं. वि.) ग्रामीण, गाँव में रहने-वाला, देहाती ।

गवैया-(हिं. वि.) गायक, गानेवाला ।

गव्य-(सं. वि.) गौ से उत्पन्न, गौ से प्राप्त; (पुं.) गाय का सुँड, पञ्चगव्य यथा-दूध, दही, घी, गोबर, गो-मूत्र आदि, घनूप की डोरी ।

गव्यूत, गव्यूति-(सं. पुं, स्त्री.) दो सहस्र घनूप की ढूरी, दो कोस ।

गदत-(फा. स्त्री.) फिरना, भ्रमण, चक्कर ।

गदती-(फा. वि.) गदत करनेवाला, फिरनेवाला ।

गसना-(हिं. क्रि. स.) जकड़ना, गाँठना ।

गसीला-(हिं. वि.) जकड़ा हुआ, गठा हुआ ।

गस्ता-(हिं. पुं.) प्राप्त, कार ।

गह-(हिं. स्त्री.) पकड़, पकड़ने या थामने की क्रिया, किसी शस्त्र को मूठ; (मूहा.)-बँठना-मूठ पर पूरी तरह से हाथ बँठना ।

गहकना-(हिं. क्रि. अ.) लालसा से पूर्ण होना, ललकना, उमंग से पूर्ण होना ।

गहगड्ड-(हिं. वि.) गहरा, नारी, घोर ।

गहगह-(हिं. वि.) प्रफुल्लित, आनन्द से भरा हुआ; (अव्य.) गहगहे ।

गहगह-(हिं. वि.) आनन्द से भरा हुआ ।

गहगहाना-(हिं. क्रि. अ.) आनन्द में मग्न होना, अति प्रसन्न होना, लहलहाना ।

गहगहे-(हिं. अव्य.) घूम-घाम से, बड़ी प्रसन्नता से ।

गहडोरना-(हिं. क्रि. स.) पानी को घँघोल-कर गंदा करना ।

गहन-(सं. पुं.) वन, जंगल, दुःख, कष्ट, गहराई, दुर्गम स्थान, जल, पानी; (वि.) दुर्गम, गहरा, घना, अथाह; (हिं. स्त्री.) ग्रहण, दीप, कलंक, कष्ट, विपत्ति ।

गहनता-(सं. स्त्री.) गहन होने का भाव ।

गहना-(हिं. पुं.) आभूषण, बंधक; (क्रि. स.) पकड़ना, घरना ।

गहनि-(हिं. स्त्री.) टेक, हठ, पकड़ ।

गहनी-(हिं. स्त्री.) पशुओं के दाँत हिलने का रोग ।

गहवर-(हिं. वि.) विपन्न, आवेगपूर्ण, उद्विग्न, व्याकुल ।

गहवरना-(हिं. क्रि. अ.) व्याकुल होना, घबड़ाना ।

गहरना-(हिं. क्रि. अ.) किलंब करना, धेर करना ।

गहरवार-(हिं. वि.) एक क्षत्रिय वंश का नाम ।

गहरा-(हिं. वि.) जिसका न्यूनतम बट्ट

नीचे जाकर पाया जावे, जो पृथ्वीतल के भीतर बहुत दूर तक चला गया हो, गंभीर, प्रचण्ड, अधिक, भारी, निम्न, दृढ़, गाढ़ा, कठिन; (मुहा.)—हाथ मारना—भारी रकम मार लेना; शस्त्र की भरपूर मार; गहरी छनना या घुटना—खूब भाँग घुटना; गहरी साँस भरना—ठंडी साँस लेना; गहरे पेट का—रहस्य को गुप्त रखने-वाला; गहरा असामी—घनी मनुष्य; गहरे लोग—घूर्त लोग।
 गहराई—(हि. स्त्री.) गंभीरपन, गहरापन।
 गहराना—(हि. क्रि. अ., स.) गहरा होना या करना।
 गहराव—(हि. पुं.) गहराई, गहरापन।
 गहरा—(हि. स्त्री.) विलंब, देर।
 गहरेवाजी—(हि. स्त्री.) एकके के घोड़े की तीव्र गति।
 गहलोत—(हि. पुं.) राजपूत क्षत्रियों की एक शाखा।
 गहवा—(हि. पुं.) सँडसी।
 गहवाना—(हि. क्रि. स.) पकड़ने का काम दूसरे से कराना।
 गहवारा—(हि. पुं.) झूला, हिंडोला।
 गहवाई—(हि. स्त्री.) पकड़ने का काम, पकड़।
 गहागड्ड—(हि. वि.) देखें 'गहगड्ड'।
 गहागह—(हि. अव्य.) देखें 'गहगह'।
 गहाना—(हि. क्रि. स.) पकड़ाना, धराना।
 गहिराव—(हि. पुं.) देखें 'गहराई'।
 गहीर—(हि. वि.) गहरा।
 गहीला—(हि. वि.) अभिमानी, मदोन्मत्त, पागल।
 गहुआ—(हि. पुं.) छोटे आकार की सँडसी।
 गहेलरा—(हि. वि.) पागल, मूर्ख, गंवार।
 गहेला—(हि. वि.) हठी, अहंकारी, घमण्डी, पागल, मूर्ख, अज्ञानी।
 गहैया—(हि. वि.) पकड़नेवाला, ग्रहण करनेवाला, अंगीकार करनेवाला।
 गह्वर—(सं. पुं.) गर्त, विल; (वि.) निविड़, दुर्गम, विषम।
 गाँकर—(हि. स्त्री.) वाटी, लिट्टी।
 गाँगेय—(सं. पुं.) भीष्म, कार्तिकेय।
 गाँछना—(हि. क्रि. स.) गाँथना, गूँथना।
 गाँज—(हि. पुं.) अनाज आदि का ढेर।
 गाँजना—(हि. क्रि. स.) ढेर लगाना, एक के ऊपर एक लादना, राशि लगाना।
 गाँजा—(हि. पुं.) एक पौधा जिसकी कली तमाकू की तरह चिलम पर पीते हैं, यह बहुत उन्मादक होता है।
 गाँठ—(हि. स्त्री.) ग्रन्थि, गिरह जो डोरी, धागे आदि में पड़ जाती है, चोरा, गठरी,

शरीर के अंग का जोड़, पर्व, ऊख की पोर, गट्ठा, घास-फूस का बंधा हुआ बोज; (मुहा.)—का पूरा—धनवान्, धनी;—खोलना—रहस्य उद्घाटित करना;—जोड़ना—विवाह की रीति पूरी करना;—भैंसोंवाँधना—अच्छी तरह स्मरण रखना; मन की गाँठ खोलना—बिना कुछ छिपाये बातें करना; मन में गाँठ पड़ना—विगाड़ होना।
 गाँठकट—(हि. पुं.) गिरहकट, ठग, चोर।
 गाँठ-गोभी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की गोभी जिसमें गूदेदार गाँठ होती है।
 गाँठदार—(हि. वि.) जिसमें बहुत-सी गाँठें हों।
 गाँठना—(हि. क्रि. स.) गाँठ देना, बाँधकर मिला देना, मिलाना, साटना, जोड़ना, अनुकूल करना, वश में लाना, आक्रमण रोकना, पेवन या चकती लगाना; (मुहा.) मतलब गाँठना—अपना काम निकाल लेना।
 गाँठी—(हि. स्त्री.) देखें 'गाँठ'।
 गाँड़—(हि. स्त्री.) किसी पदार्थ का नीचे का भाग, गुदा, मलद्वार।
 गाँड़र—(हि. स्त्री.) मूँज की तरह की एक लंबी घास।
 गाँड़ा—(हि. पुं.) किसी वृक्ष या पौधे का कटा हुआ भाग, ऊख की कटी हुई गँड़ेरी जो कोलहू में पेरने या खेत में बोने के लिये डाली जाती है।
 गाँड़ू—(हि. वि., पुं.) गुदा मैथुन करने या करानेवाला, कायर, नीच, डरपोक।
 गाँती—(हि. स्त्री.) देखें 'गाती'।
 गाँथना—(हि. क्रि. स.) गूँथना, मिलाना, जोड़ना, मोटी सिलाई करना।
 गाँधर्व—(सं. वि.) गंधर्व संबंधी।
 गाँधार—(सं. पुं.) भारतवर्ष का एक प्राचीन जनपद।
 गाँधारी—(सं. स्त्री.) गाँधार की राजकुमारी।
 गाँधी—(हि. पुं.) गुजराती वैश्यों का एक संप्रदाय।
 गाँभीर्य—(सं. पुं.) गंभीरता।
 गाँव—(हि. पुं.) किसानों के रहने का स्थान, छोटी बस्ती, ग्राम।
 गाँस—(हि. स्त्री.) ग्रन्थन, वर्धन, फन्दा, प्रतिरोध, वैर, ईर्ष्या, हृदय की गुप्त वात, तीर या बरछी का फल, अस्त्र का नुकीला भाग, अधिकार, शासन, गठन, देतरेख, कठिनता।
 गाँसना—(हि. क्रि. स.) गूँथना, गाँठना, कसना, ठस करना, ठूसना, भरना, वश में रखना, चुमाना।

गाँसी—(हि. स्त्री.) तीर या बरछी का फल, किसी अस्त्र का अगला भाग, गाँठ, छल, कपट।
 गाँहक—(हि. पुं.) देखें 'ग्राहक'।
 गाड़, गाई—(हि. स्त्री.) गाय।
 गाऊघण्ट—(हि. वि.) दूसरे की वस्तु या धन अपनानेवाला।
 गागर—(हि. स्त्री.) गगरी, छोटा घड़ा।
 गागरी—(हि. स्त्री.) घड़ा, गगरी।
 गाच—(हि. पुं.) महीन जालीदार कपड़ा जिसपर रेशम के बेल-बूटे कढ़े होते हैं।
 गाछ—(हि. पुं.) छोटा वृक्ष, पौधा, वृक्ष।
 गाछी—(हि. स्त्री.) खजूर की कोमल पत्ती, छोटे वृक्षों की बारी या वाग।
 गाज—(हि. स्त्री.) गर्जन, गरज, विजली गिरने का शब्द, विजली, वज्र; (पुं.) ज्ञाग; (मुहा.)—पड़ना—आपत्ति आना, वज्रपात होना, नाश होना।
 गाजना—(हि. क्रि. अ.) गरजना, चिल्लाना, प्रसन्न होना, प्रफुल्ल होना।
 गाजर—(हि. पुं.) एक मीठे कन्द का पौधा; (मुहा.)—मूली समझना—तुच्छ समझना।
 गाजी—(अ. पुं.) काफिरों से लड़नेवाला मुसलमान योद्धा।
 गाड़—(हि. स्त्री.) गर्त, गड्ढा, अन्न भरने का गड्ढा, कुएँ की ढाल, खत्ती, खेत की मेड़, भगाड़।
 गाड़ना—(हि. क्रि. स.) पृथ्वी में गड्ढा खोदकर उसमें कोई वस्तु रखकर मिट्टी से ढाँपना, तोपना, जमाना, घँसाना, छिपाना, गुप्त रखना।
 गाडर—(हि. स्त्री.) भेंड़; (अं. स्त्री.) लोहे की धरन।
 गाड़ा—(हि. पुं.) छकड़ा, बैलगाड़ी, गड्ढा जिसमें प्राचीन काल में लोग छिपकर शत्रु, ठग आदि का अन्वेषण करते थे।
 गाड़ी—(हि. स्त्री.) एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य आदि को पहुँचाने का पहियेदार यन्त्र, यान, शकट;—खाना—(पुं.) गाड़ी रखने का स्थान;—दान—(पुं.) गाड़ी हाँकनेवाला, कोचवान।
 गाढ़—(सं. पुं.) अतिशय, दृढ़ता; (वि.) घना, गाढ़ा, गहरा, अथाह, विकट, कठिन, दुर्गम, अधिक, बहुत, दृढ़; (हि. पुं.) संकट, आपत्ति, कठिनाई;—मुष्टि—(वि.) कंजूस।
 गाड़ा—(हि. वि.) जो बिलकुल पतला न हो, जिसके तन्तु परस्पर सटे हों, मोटा (वस्त्र), गाढ़, गूढ़, घनिष्ठ, गहरा,

विकट, कठिन; (पुं.) खहर; गाढ़ी कमाई—(स्त्री.) बड़े परिश्रम से कमाया हुआ धन; गाढ़े का साथी—(पुं.) संकटकाल में साथ देनेवाला; गाढ़े दिन—(पुं.) संकटकाल।
 गाणपत्य, गाणपत्य—(सं. वि., पुं.) गणपति संबंधी, गणेश का उपासक।
 गाणिक्य—(सं. पुं.) वेश्याओं का शृंड।
 गात—(हिं. पुं.) गात्र, शरीर का अंग, स्तन, कुच, गर्भ।
 गाता—(सं. पुं.) गानेवाला, गवैया।
 गाती—(हिं. स्त्री.) गले में लपेटने का वस्त्र, बच्चों के गले में लपेटने का रुमाल।
 गात्र—(सं. पुं.) शरीर, देह, अंग, इन्द्रिय; —मार्जनी—(स्त्री.) गमछा, तोलिया; —रुह—(पुं.) लोम, बाल; —बती—श्री-कृष्ण की कन्या का नाम।
 गाय—(सं. पुं.) गान, स्तोत्र; (हिं. स्त्री.) यश, प्रशंसा।
 गायक—(सं. पुं.) गायक, गानेवाला।
 गाथांतर—(सं. पुं.) एक कल्प का नाम।
 गाथा—(सं. स्त्री.) स्तुति, एक प्रकार का छन्द जिसमें तुक का नियम नहीं रहता और सुनने में गद्य के सदृश जान पड़ता है, एक प्रकार का मात्रावृत्त आर्या छन्द, प्राकृत भाषा, संस्कृत तथा प्राकृत मिला हुआ श्लोक; —कार—(पुं.) महाकाव्य का रचयिता।
 गाथिका—(सं. स्त्री.) स्तुति के निमित्त श्लोक।
 गाथी—(सं. वि.) सामवेद गानेवाला।
 गाद—(हिं. स्त्री.) तरल पदार्थ के नीचे बठी हुई वस्तु, तलछट, कोई गाढ़ी वस्तु।
 गादड़—(हिं. वि.) डरपोक, कायर, सुस्त; (पुं.) गोदड़, सियार, मेढ़ा।
 गादर—(हिं. वि.) आलसी, भीड़, डरपोक।
 गादा—(हिं. पुं.) खेत का कच्चा या अच-पका अन्न, पेड़ से टपका हुआ महुवे का फल।
 गादी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का पक्वान्न, देखें 'गद्दी'।
 गादुर—(हिं. पुं.) चमगादड़।
 गाध—(सं. पुं.) स्थान, लोम, प्राप्त करने की लालसा, तलस्पर्श, धाह, जल के नीचे का स्थान, नदी का बहाव; (वि.) अल्प, थोड़ा, हल कर पार करने योग्य, छिछला।
 गाधि—(सं. पुं.) विश्वामित्र के पिता का नाम।
 गान—(सं. पुं.) गाने की क्रिया, गीत, संगीत; —विद्या—(स्त्री.) संगीत विद्या।
 गाना—(हिं. क्रि. म.) ताल-सुर सहित मुख से

मधुर ध्वनि निकालना, विस्तार सहित वर्णन करना, स्तुति करना; (पुं.) गाने की क्रिया, गान; (मुहा.) अपनी ही गाना—अपने ही संबंध की बातें करते रहना; —बजाना—(पुं. क्रि. अ.) धूमधाम या राग-रंग, उत्सव मनाना।
 गाम—(हिं. पुं.) पशुओं का गर्भ।
 गाभा—(हिं. पुं.) हलके रंग का नया निकला हुआ पत्ता, कोपल, केले आदि पौधे के भीतर का भाग, तोशक के भीतर से निकाली हुई पुरानी रुई, कच्चा अन्न।
 गाभिन, गाभिनी—(हिं. वि. स्त्री.) गामिणी, जिसके पेट में बच्चा हो।
 गाफिल—(अ. वि.) गफलत करनेवाला, असावधान।
 गाम—(हिं. पुं.) गांव, ग्राम।
 गामिनी—(सं. स्त्री.) 'गामी' का स्त्री. रूप।
 गामी—(सं. वि.) चलनेवाला, जानेवाला, यात्रा करनेवाला, संभोग करनेवाला।
 गाय—(हिं. स्त्री.) गौ, बहुत सीधा-सादा मनुष्य।
 गायक—(सं. पुं.) गवैया, गानेवाला।
 गायकवाड़—(मं. पुं.) बड़ोदा नरेश की उपाधि।
 गायकी—(सं. स्त्री.) गानेवाली स्त्री।
 गायगोठ—(हिं. स्त्री.) गोशाला।
 गायताल—(हिं. पुं.) निकृष्ट पदार्थ।
 गायत्री—(सं. स्त्री.) एक वैदिक मन्त्र जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है, यह द्विजो का सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है, चौबीस अक्षरों का एक वैदिक छन्द, दुर्गा, गंगा; (पुं.) खदिर, खैर।
 गायन—(सं. पुं.) गाने का व्यवसाय करनेवाला, गीत गाकर जीविका का निर्वाह करनेवाला, कार्तिकेय, गाना।
 गायनी—(सं. स्त्री.) गानेवाली स्त्री, एक मात्रिक छन्द।
 गायव—(अ. वि.) लुप्त, अदृश्य।
 गार—(हिं. स्त्री.) गाली; (फा. प्रत्य.) करनेवाला; (जैसे—खिदमतगार)।
 गारत—(अ. वि.) नष्ट, बरबाद।
 गारद—(अं. गाई से, स्त्री.) सिपाहियों या सैनिकों का छोटा दस्ता या टुकड़ी, प्रहरी, रक्षक, पहरा; (मुहा.)—में रखना—पहरेदार नियुक्त करना, बंदी-गृह में कैदकर रखना।
 गारना—(हिं. क्रि. स.) दबा कर पानी निकालना, निचोड़ना, निकालना, कष्ट देना।
 गारत—(हिं. पुं.) मिट्टी या चूना-मुर्गी आदि में जल मिलाकर बनाया हुआ

लेप जो ईंटों की जोड़ाई में काम आता है।
 गारी—(हिं. स्त्री.) दुवचन, गाली, कलंक का आरोपण, त्रिष्यों द्वारा गाया जानेवाला एक प्रकार का लोकगीत।
 गारुड़—(सं. पुं.) सर्प का विप उतारने का मन्त्र, गरुड़ के आकार की व्यूह-रचना, सुवर्ण, अस्त्र विशेष।
 गारुड़िक, गारुड़ी—(सं. पुं.) सर्प का विप उतारनेवाला, विप-बंध।
 गारो—(हिं. पुं.) गर्व, अहंकार, घमंड, अभिमान, प्रतिष्ठा, सम्मान।
 गार्ग—(सं. वि.) गर्ग संबंधी।
 गार्गी—(सं. स्त्री.) गर्ग गोत्र में उत्पन्न एक प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी स्त्री, दुर्गा, याज्ञवल्क्य की स्त्री।
 गार्ड—(अ. पुं.) रेलगाड़ी की रक्षा, भादि के लिए उसके साथ-साथ चलनेवाला एक कर्मचारी।
 गार्भिक—(सं. वि.) गर्भ संबंधी।
 गार्हपत्याग्नि—(सं. स्त्री.) छः प्रकार की अग्नियों में से प्रधान अग्नि जिसकी रक्षा प्रत्येक गृहस्थ को करनी चाहिए।
 गार्हस्थ्य—(सं. पुं.) गृहस्थाश्रम, गृहस्थ के पांच प्रधान कर्तव्य।
 गाल—(हिं. पुं.) कपोल, गण्ड, मुख का मध्य भाग, जितना खाद्य पदार्थ एक बार मुंह में डाला जाय; (मुहा.) काल के गाल में जाना—मृत्यु को प्राप्त होना, मरना; —करना—बढ़बढ़कर बातें करना; —फुलाना—छठन की मुद्रा अपनाना; —बजाना—व्यर्थ बकवास या बढ़बढ़ कर बातें करना; —मारना—गाल बजाना।
 गालगूल—(हिं. पुं.) व्यर्थ की बकवाद, गपजप।
 गालन—(सं. पुं.) गलाने का काम।
 गालमसूरी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का पकवान।
 गालव—(सं. पुं.) लोच का वृक्ष, एक ऋषि का नाम, एक प्रसिद्ध घर्मशास्त्रकार का नाम।
 गाला—(हिं. पुं.) धुनी हुई रूई का गोला जो सूत कातने के लिये बनाया जाता है, धूनी, बकबक करने का अभ्यास।
 गालित—(सं. वि.) दग्धोक्त, गलाया हुआ।
 गाली—(हिं. स्त्री.) दुवचन, निन्दा, कलंक-सूचक वाक्य; (मुहा.)—ग्राना—दुवचन नुनना; —देना—दुवचन का प्रयोग करना; गालियों पर उतरना—गाली-नालीज करना।
 गाली-गालोज, गाली-गुपता—(हिं. स्त्री.) दुवचन, परस्पर गाली देना।
 गालू—(हिं. वि.) गांध बजानेवाला, बतवादी।
 गाल्हना—(हिं. क्रि. म.) बोलना, बात करना।

गुंजन—(सं. पुं.) भौरों की भनभनाहट, मधुर ध्वनि।
 गुंजना—(हि. क्रि. अ.) भनभनाना, गुन-गुनाना, भौरों की तरह शब्द करना।
 गुंजरना—(हि. क्रि. अ.) गुंजार करना, भौरों का गुंजना, शब्द करना, भनभनाना।
 गुंजा—(हि. स्त्री.) धुंधची नाम की लता।
 गुंजाइश—(फा. स्त्री.) स्थान, अवकाश, समान भर को स्थान, सफाई।
 गुंजायमान—(हि. पुं.) गुंजन
 गुंजार—(हि. पुं.) गुंजन।
 गुंजारना—(हि. क्रि. अ.) गुंजना।
 गुंजारित, गुंजित—(हि. वि.) गुंजनपूर्ण।
 गुंजियाँ—(हि. स्त्री.) स्त्रियों के कान में पहिने का आभूषण।
 गुंठा—(हि. पुं.) एक प्रकार का नाटा घोड़ा, टट्टू; (वि.) नाटा, वीना।
 गुंड—(हि. वि.) पीसा हुआ; (हि. पुं.) मलार राग का एक भेद।
 गुंडई—(हि. स्त्री.) गुंडापन।
 गुंडली—(हि. स्त्री.) कुण्डली, गेंडुरी।
 गुंडा—(हि. वि.) कुमार्गी, पापी, छैल-चिकनियाँ, दुष्ट मनुष्य; -पन—(पुं.) दुष्टता, नीचता, वदमासी।
 गुंधना—(हि. क्रि. अ.) बालआदिका गुंधकर लच्छेदार बनना, नथी होना, लड़ी बनाकर बाँधा जाना, गुंधना।
 गुंधला—(हि. पुं.) मोथा नाम की घास।
 गुंधना—(हि. क्रि. अ.) जल मिलाकर आटा का सनना, गुंधना।
 गुंधवाना—(हि. क्रि. स.) गुंधने का काम दूसरे से कराना।
 गुंधाई—(हि. स्त्री.) गुंधने का काम या गुंधन का श्रुत।
 गुंधावट—(हि. स्त्री.) गुंधने या गुंधने की क्रिया, गुंधने की रीति।
 गुंध—(सं. पुं.) उलझने की अवस्था, उलझन, फंसाव, गुत्थम-गुत्था, दाढ़ी, मोँछ, गलमुच्छा, वाज्रवंद।
 गुंधन—(सं. पुं.) उलझन, गुत्थमगुत्था, गुंधना, सजाना।
 गुंधित—(सं. वि.) उलझा हुआ, गुंथा हुआ।
 गुंधज—(हि. पुं.) देख 'गुंध'।
 गुंधद—(फा. पुं.) छत की गोलाकार रचना।
 गुंधददार—(हि. वि.) गुंधद-युक्त, जिस पर गुंधद हो।
 गुंधा—(हि. पुं.) मस्तक पर चोट लगने से सूजन आना, गुलमा।
 गुंधी—(हि. स्त्री.) अंकुर, गाभ, पाल खींचने की रस्ती।

गुंनज—(हि. पुं.) देखें 'गुंध'।
 गुआ—(हि. स्त्री.) सुपारी, पुंगीफल।
 गुआरि, गुआलिन—(हि. स्त्री.) देखें 'ग्वालिन'।
 गुइयाँ—(हि. पुं.) साथी, सहचर; (स्त्री.) सखी।
 गुगुल—(सं. पुं.) एक काँटेदार वृक्ष जिसका गोंद सुगंध के लिए जलाया जाता है और दवाओं में प्रयुक्त होता है, सलई का पेड़।
 गुची—(हि. स्त्री.) सौ पान का गुच्छा, आधी ढोली।
 गुच्छी—(हि. स्त्री.) लड़कों का गुल्ली-डंडा खेलते समय भूमि में खोदा हुआ छोटा गड्ढा; (वि. स्त्री.) बहुत छोटी, नन्हीं।
 गुच्छीपारा—(हि. स्त्री.) लड़कों का कौड़ी फेंकने का गड्ढा।
 गुच्छ, गुच्छक—(सं. पुं.) एक में बँधे हुए फूलों या पत्तों का समुदाय, गुच्छा, घास का मुट्ठा, वह पौधा जिसमें केवल पत्ते और लचीली टहनियाँ निकलें, बत्तीस लड़ों का हार, मोती का हार, मोर की पूँछ।
 गुच्छा—(हि. पुं.) एक डाल में लगे हुए पत्ते, फूलों या फूलों का समूह, फूल का झब्बा, एक साथ बँधी हुई वस्तुओं का समूह, फुदना, झब्बा।
 गुच्छी—(हि. स्त्री.) करंज, रीठा, एक तरह का पौधा जिसके फूलों की तरकारी बनती है।
 गुच्छेदार—(हि. वि.) गुच्छों से युक्त, गुच्छेवाला।
 गुजर—(फा. पुं.) निर्वाह, गुजारा, पहुँच, प्रवेश, जाना, व्यतीत होना; (मुहा.) -होना या करना-निर्वाह होना या करना।
 गुजरना—(हि. क्रि. अ.) (समय का) बीतना या कटना, (आदमी, सवारी आदि का) आना-जाना, निर्वाह होना, जीविका चलना; (मुहा.) किसी पर गुजरना-किसी पर आफत या संकट आना; गुजर जाना-मर जाना।
 गुजर-बसर—(फा. पुं.) जीविका चलना, निर्वाह होना।
 गुजरात—(हि. पुं.) भारतवर्ष का एक पश्चिमी राज्य।
 गुजराती—(हि. वि.) गुजरात देश का; (स्त्री.) इस देश की भाषा, इलायची; (पुं.) इस देश का निवासी।
 गुजरान—(हि. पुं.) निर्वाह, जीविका।
 गुजरिया—(हि. स्त्री.) गुजर जाति की स्त्री, गुजरी, ग्वालिन।
 गुजरी—(हि. स्त्री.) कलाई में पहनने की एक प्रकार की पहुँची, दीपक राग की एक

रागिनी, गुजरी।
 गुजरेटी—(हि. स्त्री.) गुजर जाति की कन्या, ग्वालिन।
 गुजारा—(फा. पुं.) जीविका, निर्वाह, निर्वाह के लिए दी जानेवाली रकम, गुजर, गुजरान।
 गुजारिश (फा. स्त्री.) निवेदन, प्रार्थना।
 गुज्झा—(हि. पुं.) वाँस की कील, रेखेदारगूदा।
 गुझरीट—(हि. पुं.) वस्त्र की सिकुड़न, स्त्रियों की नाभिके पास का भाग।
 गुक्षिया—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की मिठाई।
 गुट—(हि. पुं.) गुट्ट, दल, समूह; -बंदी—(स्त्री.) दल बनाना; (मुहा.)-बाँधना-दल बनाना।
 गुटकना—(हि. क्रि. अ., स.) क्वत्तर की तरह शब्द करना, निगल जाना, खा जाना।
 गुटका—(हि. पुं.) छोटे आकार की पुस्तक, गुटिका, गुपचुप नाम की मिठाई।
 गुटकाना—(हि. क्रि. स.) तबला बजाना।
 गुटरगुं—(हि. स्त्री.) क्वत्तर की बोली।
 गुटिका—(सं. स्त्री.) वटिका, गोली, गोल (वर्तुलकार) पदार्थ।
 गुट्ट—(हि. पुं.) समूह, झुंड, दल, जत्था।
 गुट्टा—(हि. पुं.) लाह की बनी हुई गोटी।
 गुट्टल—(हि. वि.) जिसमें बड़ी गुठली के आकार की जड़ या बीज हो, मूर्ख; (पुं.) गाँठ, गिल्टी।
 गुठली—(हि. स्त्री.) किसी फल का कड़ा और बड़ा बीज।
 गुंडवा—(हि. पुं.) गुंड में पकाया हुआ आम का गूदा, फरही का गुंड म बना लड्डू।
 गुंड—(हि. पुं.) कड़ाहे में ऊँच का रस उवालकर गाढ़ा किया हुआ तथा जमाया हुआ पिंड, भेली; (मुहा.) कुल्हिया में गुंड फटना-गुप्त रीति से कोई कार्य होना।
 गुडकरी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की रागिनी।
 गुडगुड—(हि. पुं.) जल में नली आदि द्वारा वायु-प्रवेश होने का शब्द।
 गुडगुडाना—(हि. क्रि. अ., स.) गुडगुड शब्द होना, हुक्का पीना।
 गुडगुडाहट—(हि. स्त्री.) गुडगुड शब्द होना।
 गुडगुडी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का हुक्का।
 गुडघनियाँ, गुडघानी—(हि. स्त्री.) मुने हुए गेहूँ के साथ गुड मिलाकर बनाया हुआ लड्डू।
 गुडच, गुडची—(हि. स्त्री.) देखें 'गुहच'।
 गुडफला—(सं. स्त्री.) छोटी मकोय।
 गुडहर, गुडहल—(हि. पुं.) अड़हल का पौधा या फूल, जपा वृक्ष या पुष्प।
 गुडाकू(ख)—(हि. पुं.) गुड मिला हुआ पीने का

तंवाक् ।

गुड़ाकेश—(सं. पं.) अर्जुन, शिव, महादेव ।
 गुड़िया—(हि. स्त्री.) कपड़े की बनी हुई लड़कियों के खेलने की पुतली; (मुहा.) गुड़ियों का खेल—अति सहज कार्य ।
 गुड़ी—(हि. स्त्री.) पतंग, कनकैया, गुडडी ।
 गुडरू—(हि. स्त्री.) केवाड की चूल, छोटा छिद्र ।
 गुडूवा—(हि. पं.) कपड़े का बना हुआ पुतला, गुडडा ।
 गुड़ची—(सं. स्त्री.) गुरुच, गिलोय ।
 गुड्डा—(हि. पं.) बड़ा पतंग, बड़ी गुड़िया ।
 गुडडी—(हि. स्त्री.) पतंग, कनकैया, घुटने की हड्डी, एक प्रकार का छोटा हुक्का ।
 गुड्ड—(हि. पं.) एक प्रकार का धूल में रहनेवाला कीड़ा, गुडरू ।
 गुद्—(हि. पं.) छिपने का स्थान ।
 गुदना—(हि. क्रि. अ.) छिपना ।
 गुण—(सं. पं.) धनुष की प्रत्यंचा, रस्सी, डोरी, शीर्षादि गुण, धर्म, प्रकृति के सत्त्व, रज, तम—ये तीन भाव, प्रवीणता, सद्बृत्ति, अच्छा स्वभाव, शील, ज्ञान, विद्या आदि उत्कर्ष, वड़ाई, कला, प्रभाव, विशेषण, विशेषता, सुद, व्याज, इन्द्रिय, त्याग, मलाई, प्रकृति, तीन की संख्या, गणित, तन्तु, डोरा, व्याकरण में 'अ' 'ए' और 'ओ' वर्ण, 'गुना' अर्थ का प्रत्यय; यथा—त्रिगुण इत्यादि; (मुहा.)
 -गाना—प्रशंसा करना; -मानना—उपकार मानना; -क—(पं.) वह अंक जिससे कोई अंक गुणा किया जावे, इन्द्रिय, गुण; -कथन—(पं.) गुणवर्णन; -कर—(वि.) लाभदायक, गुण करनेवाला; -कार—(वि.) रसीई बनानेवाला; (पं.) भीमसेन, संगीत विद्या का जानकार; -कारक, कारी—(वि.) लाभदायक; -किरी, -केली—(स्त्री.) एक रागिनी का नाम; -केशी—(स्त्री.) इन्द्र के सारथी की कन्या; -गान—(पं.) गुण-कीर्तन; -गौरी—(स्त्री.) पतिव्रता स्त्री, सोहागिन, पति के सदृश गुण वाली स्त्री, स्त्रियों का एक व्रत; -ग्राम—(पं.) गुणों का समूह; -ग्राहक, -ग्राही—(वि.) गुणों को ग्रहण करनेवाला; -ज्ञ—(वि.) गुणों को समझनेवाला, गुणों को परखनेवाला, गुणी; -०ता—(स्त्री.) गुण की परख या जांच; -ता—(स्त्री.) गुणत्व, अधीनता; -त्व—(पं.) गुण का भाव, अधीनता; -त्रय—(पं.) सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण; -न—(पं.) मन्त्रणा, अभ्यास, एक अंक को दूसरे से

गुणा करना, गुणा, आवृत्ति, वर्णन, सोचना, मनन करना; -०फल—(पं.) वह संख्या जो दो अंकों को गुणा करने से प्राप्त हो; -निधि—(वि.) गुणों का भंडार; -नीय—(वि.) गुणा करने योग्य, गुण्य; -प्रिय—(वि.) गुणा-नुरागी; -मय—(वि.) गुणपूर्ण, गुणाढ्य; -वाचक—(वि.) गुण को प्रगट करनेवाला; -०संज्ञा—(पं.) भाव-वाचक संज्ञा; -वाद—(पं.) मीमांसा के अनुसार अर्थवादविशेष; -वान्—(वि.) गुणी, गुणवाला; -शब्द—(पं.) गुणवोधक शब्द; -शील—(वि.) सच्चरित्र, अच्छे गुण का; -संकीर्तन—(पं.) गुणानुवाद, गुणकथन; -सागर—(पं.) एक प्रकार का राग; (वि.) गुण-निधि; -हीन—(वि.) गुणशून्य, जिसमें कोई गुण न हो ।
 गुणांक—(सं. पं.) वह अंक जिसको गुणा करना हो ।
 गुणा—हि. पं.) गणित की एक क्रिया, गुणन ।
 गुणाकर—(सं. पं.) गुण-निधि, महादेव ।
 गुणास्थान—(सं. पं.) गुण-कीर्तन ।
 गुणाढ्य—(सं. वि.) गुणयुक्त, गुणवान् ।
 गुणातीत—(सं. वि.) सुख-दुःख से रहित, जीवन्मुक्त ।
 गुणानुवाद—(सं. पं.) प्रशंसा, वड़ाई ।
 गुणान्वित—(सं. वि.) गुणयुक्त, गुणवान् ।
 गुणापवाद—(सं. पं.) गुण को निन्दा ।
 गुणावली—(सं. स्त्री.) गुणा करने की प्रणाली ।
 गुणित—(सं. वि.) गुणन किया हुआ ।
 गुणी—(सं. पं.) धनुष, झाड़-फूंक करनेवाला ओझा; (वि.) गुणवान्, निपुण ।
 गुणीभूत व्यंग्य—(सं. पं.) वह काव्य जिसमें व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से कम या समान हो, अधिक न हो ।
 गुणेश्वर—(सं. पं.) गुण के अधिपति, परमेश्वर ।
 गुण्य—(सं. वि.) गुणनीय, प्रसस्त, गुणयुक्त, जिसमें अच्छे गुण हों; (पं.) वह अंक जिसको गुणा करना हो ।
 गुण्यांक—(सं. पं.) वह अङ्क जो गुणा किया जावे ।
 गुण्यमगुत्या—(हि. पं.) उलझन, फँसवि, भिड़न्त, लड़ाई, हाथावाही ।
 गुथी—(हि. स्त्री.) कई वस्तुओं को एक में गुंथने की गाँठ, गिरह, उलझन ।
 गुथना—(हि. क्रि. अ.) गुथा जाना, टाँका लगना, मद्दी तरह से सिला जाना, लड़ने के लिए दो मनुष्यों का परस्पर लिपट जाना ।
 गुथवाना—(हि. क्रि. स.) गुंथने का काम दूसरे से कराना ।

गुथवां—(हि. वि.) गुथकर बनाया हुआ ।
 गुद्—(सं. पं.) अपान, मलत्याग का द्वार, गुदा ।
 गुदकार—(हि. वि.) गुदेदार, गुदगुदा, गुदार, मांसल ।
 गुदकील—(सं. पं.) अर्श रोग, बवासीर ।
 गुदगुदा—(हि. वि.) गुदेदार, मांसयुक्त, कोमल, जिसका तल दवाने से दब जावे ।
 गुदगुदाना—(हि. क्रि. स.) वच्चों को प्रसन्न करने के लिये उनको काँच, पैर के तलवे, पेट आदि को सहलाना, मन बहलाना, चित्त को चलायमान करना ।
 गुदगुदाहट—(हि. स्त्री.) काँच, पेट आदि मांसल स्थानों पर अँगुली द्वारा सहलाने से उत्पन्न सुरसुराहट या मंद खुजली, आह्लाद, उत्कण्ठा, उमंग, हुलास ।
 गुदगुदी—(हि. स्त्री.) देख 'गुदगुदाहट' ।
 गुदग्रह—(सं. पं.) काष्ठवृद्धता का रोग ।
 गुदड़िया—(हि. पं.) गुदड़ी पहिने या ओढ़नेवाला ।
 गुदड़ी—(हि. पं.) फटे-पुराने वस्त्रों का बना हुआ ओढ़ना या विछोना; -वाजार—(पं.) वह हाट जिसमें टूटे-फूटे पदार्थ तथा फटे-पुराने वस्त्र आदि विकते हैं; (मुहा.)
 -का लाल—(पं.) गरीब की तरह रहनेवाला असाधारण प्रतिमान्वित व्यक्ति ।
 गुदना—(हि. क्रि. अ.) गड़ना, चुभना; (पं.) देख 'गोदना' ।
 गुदभ्रंश—(सं. पं.) गुदा से काँच निकलने का रोग ।
 गुदमा—(हि. पं.) एक प्रकार का नरम मोटा कम्बल ।
 गुदर—(हि. पं.) राज-सना में उपस्थिति ।
 गुदरना—(हि. क्रि. अ.) निवेदन करना ।
 गुदरानना—(हि. क्रि. स.) सूचित करना ।
 गुदरी—(हि. स्त्री.) देख 'गुदड़ी' ।
 गुदरन—(हि. स्त्री.) पड़ा हुआ पाठ भली भाँति सुनाना, परोक्षा ।
 गुदवाना—(हि. क्रि. स.) गुदाना ।
 गुदस्तंभ—(सं. पं.) कठिनता से मल निकलने का रोग ।
 गुदाङ्गुर—(सं. पं.) अर्शरोग ।
 गुदा—(सं. स्त्री.) मलद्वार, गाँड़ ।
 गुदाना—(हि. क्रि. स.) गोदने की क्रिया कराना, गुदवाना ।
 गुदाम—(हि. पं.) अनेक पदार्थों के रखने का स्थान, गोला, गोदान ।
 गुदार—(हि. वि.) गुदेदार, जिसमें गुदा अधिक हो ।
 गुदारना—(हि. क्रि. स.) पङ्कट गुदना ।
 गुदारा—(हि. वि.) गुदेदार ।

गुदरी—(हि. स्त्री.) मटर की फली, मटर को उपज को नष्ट करनेवाला कीड़ा।
 गुद्दा—(हि. पुं.) फल आदि के भीतर का गुदा।
 गुद्दी—(हि. स्त्री.) किसी फल के बीच का गुदा, गिरी, भोंगी, मस्तक का पिछला भाग, हथेली का मांस।
 गुन—(हि. पुं.) देखें 'गुण'।
 गुनकारी—(हि. वि.) गुणकारक।
 गुनगुना—(हि. वि.) कुनकुना, थोड़ा गरम।
 गुनगुनाना—(हि. क्रि. अ., स.) गुनगुन शब्द बोलना, नाक से बोलना, अस्पष्ट स्वर में गाना।
 गुनना—(हि. क्रि. स.) गुणा करना, मनन करना, सोचना-विचारना, गिनना, रटना।
 गुनवंत—(हि. वि.) गुणी, जिसमें कोई गुण हो।
 गुनहगार—(फा. वि.) दोषी, अपराधी।
 गुनहगारी—(फा. स्त्री.) दोष, अपराध।
 गुना—(हि. पुं.) संख्या सूचित करने के लिये शब्दों के अन्त में जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ "उतनी बार और होना" होता है; यथा—दस-गुना, बीस-गुना इत्यादि; गणित में गुणा करने की क्रिया।
 गुनावन—(हि. पुं.) विचार।
 गुनाह—(फा. पुं.) दोष, कसूर, दुष्कर्म; -गार—(वि.) देखें 'गुनहगार'।
 गुनाही—(हि. वि.) देखें 'गुनहगार'।
 गुनिया—(हि. वि.) गुणी, गुणवान; (स्त्री.) राजगीर का समकोण नापने का यन्त्र, गोनिया; (पुं.) नाव की रस्सी खींचने-वाला मल्लाह।
 गुनियाला—(हि. वि.) गुणी।
 गुनी—(हि. वि.) देखें 'गुणी'।
 गुन्नी—(हि. स्त्री.) कपड़ा ऐंठकर बना हुआ कोड़ा।
 गुपचुप—(हि. स्त्री.) एक तरह की मिठाई जो मुख में रखते ही गल जाती है; (अव्य.) चुपचाप, गुप्त रीति से।
 गुपाल—(हि. पुं.) देखें 'गोपाल'।
 गुपुत—(हि. वि.) देखें 'गुप्त'।
 गुप्त—(सं. वि.) गुढ़, रक्षित, छिपा हुआ, कठिनाता से जानने योग्य; (पुं.) वैश्यों की एक उपाधि; -चर—(पुं.) जो दूत किसी बात का चुपचाप भेद लेता है, जासूस, भेदिया; -दान—(पुं.) वह दान जिसको देनेवाले के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानने पाता; -मार—(हि. स्त्री.) भीतररी मार, छिपकर किया हुआ अनिष्ट; -वेश—(पुं.) ऐसा पहनावा जिससे मनुष्य पहिनाता न जा सके।

गुप्ता—(सं. स्त्री.) वह परकीया नायिका जो सुरति छिपाने का उद्योग करती है, रक्षिता स्त्री, रखनी।
 गुप्ति—(सं. स्त्री.) छिपाने की क्रिया, रक्षण, आच्छादन, कारागार, कन्दरा, गुड़वा, तन्त्र के अनुसार मन्त्र का संस्कार, अहिंसा आदि योग के अंग, नाक का छिद्र।
 गुप्ती—(हि. स्त्री.) एक तरह की किरिच या तलवार जो छड़ी के भीतर छिपी रहती है।
 गुपफा—(हि. पुं.) फुंदना, झन्डा, फूलों का गुच्छा।
 गुफा—(हि. स्त्री.) गुहा, कन्दरा।
 गुवरैला—(हि. पुं.) गोबर में से उत्पन्न होने-वाला एक प्रकार का काले रंग का कीड़ा।
 गुवार—(अ. पुं.) मन में जमा हुआ क्रोध, द्वेष आदि की भावना; (मुहा.)—निका-लना—द्वेष आदि के कारण बदला चुकाना, कसर लेना या काढ़ना।
 गुवारा—(हि. पुं.) देखें 'गुव्वारा'।
 गुविंद—(हि. पुं.) देखें 'गोविंद'।
 गुव्वाडा, गुव्वारा—(हि. पुं.) कागज, खर आदि की बनी हुई वह गोल या लंबी थैली जो गरम वायु या किसी प्रकार की गैस भरकर आकाश में उड़ाई जाती है।
 गुम—(फा. वि.) खोया हुआ, गायब, गुप्त, छिपा हुआ, लापता।
 गुमकना—(हि. क्रि. अ.) भीतर ही भीतर गुंजना।
 गुमजी—(हि. स्त्री.) छोटा गुंबद।
 गुमटा—(हि. पुं.) गोल सृजन जो मस्तक में चोट लगने से उत्पन्न होती है, गुलमा।
 गुमटी—(हि. स्त्री.) घर की सबसे ऊपर की छत या सीढ़ी, रेल-लाइन के किनारे चौकीदार की कोठरी, टीन और लकड़ी से बनी हुई छोटी दुकान।
 गुमना—(हि. क्रि. अ.) लुप्त हो जाना, खोजाना।
 गुमनाम—(फा. वि.) अप्रसिद्ध, अज्ञात, जिस पर नाम आदि न लिखा हो।
 गुमान—(फा. पुं.) धमंड, अहंकार, अनुमान, कु-धारणा।
 गुमाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'गंवाना'।
 गुमानी—(हि. वि.) अहंकारी, धमण्डी।
 गुमास्ता—(फा. पुं.) बड़े रोजगारी की श्रौर से बचने और खरीदने का काम करनेवाला, अभिकर्ता।
 गुमास्तागोरी—(फा. स्त्री.) गुमास्ते का पद या काम।
 गुमिटना—(हि. क्रि. अ.) लिपटना, लपेटा जाना।

गुम्मत—(हि. पुं.) गुंबद।
 गुम्मा—(हि. वि.) कम बोलनेवाला, चुप्पा; (पुं.) एक किस्म की बड़ी ईंट।
 गुम्ब (बा)—(हि. पुं.) गुंबदा।
 गुर—(हि. पुं.) किसी कार्य की सिद्धि के लिये मूलमन्त्र, युक्ति, भेद, तीन की संख्या, देखें 'गुड़' और 'गुरु'।
 गुरअई—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का वन्धक।
 गुरगा—(हि. पुं.) गुरु का शिष्य, चेला, अनुचर, अनुगामी, टहलुआ, नौकर, भेदिया, जासूस।
 गुरुच—(हि. स्त्री.) देखें 'गुडुच'।
 गुरुचियाना—(हि. क्रि. अ.) सिकुड़न पड़ना, अरुझना।
 गुरुची—(हि. स्त्री.) सिकुड़न, बल, बटन।
 गुरुचों—(हि. स्त्री.) आपस में धीरे-धीरे बात करना, कानाफूसी।
 गुरुदा—(फा. पुं.) रीढ़दार प्राणियों में स्थित कलेज के पास का एक अंग, वृक्क, साहस, हिम्मत।
 गुरुवी—(हि. वि.) अभिमानी।
 गुरुमुख—(हि. वि.) गुरु से मन्त्र की दीक्षा या शिक्षा लिया हुआ, गुरुमुख।
 गुरुमुखी—(हि. स्त्री.) गुरुमुखी।
 गुरुवार—(हि. पुं.) गुरुवार, बृहस्पतिवार।
 गुरुवी—(हि. वि.) अहंकारी, धमण्डी।
 गुरुसल—(हि. पुं.) सिरोंही नामक पक्षी।
 गुरुसी—(हि. स्त्री.) अंगीठी।
 गुरुमुन—(हि. पुं.) सोनारों की एक प्रकार की छेनी।
 गुराई—(हि. स्त्री.) देखें 'गोराई'।
 गुराव (व)—(हि. पुं.) तोप लादने की एक प्रकार की गाड़ी, एक मस्तूल की नाव, चारों काटने का एक शस्त्र।
 गुरिया—(हि. स्त्री.) किसी माला या लड़ी का एक दाना, मनका, कटा हुआ गोल छोटा टुकड़ा, हेंगी में बँधी हुई रस्सी जिसका एक छोर जुए के बीच में बँधा रहता है।
 गुरिल्ला—(अं. पुं.) गोरिल्ला, छापामार सेना का दस्ता या सैनिक, गोरिल्ला।
 गुरिल्ला युद्ध—(हि. पुं.) वह युद्ध जिसमें छिपे-छिपे सैनिकों के दस्ते एक दूसरे पर अवसर पाकर अज्ञात रूप से आक्रमण करते रहते हैं।
 गुरु—(सं. पुं.) देवताओं के गुरु बृहस्पति, शिव, परमेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, तान्त्रिक अथवा अन्य मन्त्र का उपदेश देनेवाला पुण्य नक्षत्र, आचार्य, विद्या या कला सिखलानेवाला अध्यापक दो मात्राओं

फल और उसका वृक्ष ।
 गुलाब वाड़ी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का उत्सव जिसमें शोभा के लिये गुलाब के फूल सजाये जाते हैं ।
 गुलाबी—(हि. वि.) गुलाब के रंग का, गुलाब संवंधी, थोड़ा हल्का; (पुं.) एक प्रकार का लाल रंग ।
 गुलाम—(अ. पुं.) मोल लिया हुआ या क्रीत, दास खरीदा हुआ नौकर, पराधीन व्यक्ति, ताश का गुलाम-छाप पत्ता ।
 गुलामी—(अ. स्त्री.) गुलाम होने का भाव या स्थिति, दासता, दासत्व, पराधीनता, परतंत्रता, नौकरी ।
 गुलाल—(हि. पुं.) एक प्रकार की लाल वुकनी जो होली में एक दूसरे के मुख पर मंलते हैं ।
 गुलिका—(सं. स्त्री.) गुटिका, गोली ।
 गुलिया—(हि. वि.) महुवे के बीज से निकाला हुआ ।
 गुलबंद—(फा. पुं.) गले का एक गहना, ऊनी पट्टी जो जाड़े में लोग गले या मस्तक पर लपेटते हैं ।
 गुलेटन—(हि. पुं.) सान की बट्टी ।
 गुलेला—(हि. पुं.) गुलेल, इसमें प्रयुक्त गोली या छरी ।
 गुलेदा—(हि. पुं.) महुवे का फल, कोइना ।
 गुल्फ—(सं. पुं.) एंडी के ऊपर की गांठ ।
 गुल्म—(सं. पुं.) सेना का एक अंश जिसमें ९ रथ, ९ हाथी, ४५ पैदल और २७ घोड़े रहते हैं, रक्षाव्यूह, प्लीहा रोग, वृक्ष जिसमें तना न हो, पेट का एक रोग; -मूल—(पुं.) आद्रक, अदरक ।
 गुल्लक—(हि. पुं.) देखें 'गोलक', प्रतिदिन की आमदनी रखने की थैली या संदूक ।
 गुल्लर—(हि. पुं.) देखें 'गूलर' ।
 गुल्ला—(हि. पुं.) गुलेल में फेंकने की मिट्टी की गोली, एक तरह की मिठाई, रसगुल्ला, ईख की गँड़ेरी, रस्सी का फंदा ।
 गुल्ली—(हि. स्त्री.) बीज, फल की गुठली, महुवे का फल, गोलाकार लंबो-तरा छोटा टुकड़ा, लड़कों का डंडे से खेलने का काठ का छोटा टुकड़ा, केवड़े का फूल, छोटा गोल पासा, ईख की गँड़ेरी ।
 गुल्ली-डंडा—(हि. पुं.) लड़कों का एक प्रसिद्ध खेल जो गुल्ली और डंडे से खेला जाता है ।
 गुवाक—(सं. पुं.) सुपारी या उसका वृक्ष ।
 गुवाल—(हि. पुं.) देखें 'गवाल', अहीर ।
 गुविद—(हि. पुं.) देखें 'गोविद' ।
 गुमल—(हि. पुं.) देखें 'गुस्त', स्नान;

-खाना—(पुं.) स्नानगृह ।
 गुसाई—(हि. पुं.) गोसाई, गोस्वामी ।
 गुसा—(हि. पुं.) गुस्ता, क्रोध, रोष ।
 गुसैयां—(हि. पुं.) ईश्वर, स्वामी ।
 गुस्ताख—(फा. वि.) वड़ों का संकोच न रखनेवाला, उहड़, अशिष्ट ।
 गुस्ताखी—(फा. स्त्री.) उहड़ता, अशिष्टता ।
 गुस्त—(अ. पुं.) स्नान, नहाना ।
 गुस्तखाना—(अ. पुं.) स्नानागार ।
 गुस्ता—(अ. पुं.) क्रोध, कोप; (मुहा.)—उतरना या निकलना—क्रोध शांत होना;—उतारना—बदला लेकर अपना क्रोध शांत करना;—चढ़ना—क्रोध चढ़ना ।
 गुस्तैल—(हि. वि.) चिड़चिड़ा, क्रोधी ।
 गुह—(सं. पुं.) कातिकेय, घोड़ा, परमेश्वर, विष्णु, शृङ्गवेरपुर का एक मल्लाह राजा जो राम का मित्र था, गुफा, कन्दरा, हृदय, माया; (हि. पुं.) विष्ठा, गु ।
 गुहड़ा—(हि. पुं.) चौपायों का एक रोग ।
 गुहना—(हि. क्रि. स.) गूथना ।
 गुहराना—(हि. क्रि. स.) पुकारना, चिल्लाकर बुलाना ।
 गुहवाना—(हि. क्रि. स.) गूथने का काम दूसरे से कराना, गूथवाना ।
 गुहांजनी—(हि. स्त्री.) आँख की पलक पर होनेवाली फोड़िया, विलनी ।
 गुहा—(सं. स्त्री.) गड्ढा, गुफा, कन्दरा, हृदय ।
 गुहाई—(हि. स्त्री.) गूथने की क्रिया या वेतन ।
 गुहाचर—(सं. पुं.) ब्रह्म, परमात्मा ।
 गुहामुख—(सं. पुं.) कन्दरा का द्वार ।
 गुहार—(हि. स्त्री.) रक्षा के लिये पुकार, दोहाई ।
 गुहाल—(हि. पुं.) गोशाला, गाय रखने का घर ।
 गुहावाय—(सं. पुं.) परमात्मा, प्राण ।
 गुहिन—(सं. पुं.) वन, जंगल ।
 गुह्य—(सं. वि.) गोपनीय, छिपा हुआ, गूढ़, छिपाने योग्य, गुप्त, जिसका अर्थ सहज में स्पष्ट न हो; (पुं.) कछुवा, शिव, महादेव, विष्णु, गुप्तांग; -क—(पुं.) कुवेर के धन की रक्षा करनेवाला यक्ष; -दीपक—(पुं.) खद्योत, जुगनु; -देश—(पुं.) गुदा, मलद्वार; -पति—(पुं.) वज्रधर, कुवेर ।
 गुह्यश्वरी—(सं. स्त्री.) काली, आद्या, विद्या ।
 गुगा—(फा. वि.) जो बोल न सके, मूक, जिसके मुख से शब्द स्पष्ट न निकले; (मुहा.) गुगे का गुड़—ऐसी वस्तु जिसका

अनुभव हो पर जिह्वा से कहाना जा सके ।
 गुंगी—(हि. स्त्री.) बोल न सकनेवाली स्त्री, एक प्रकार की विछिया, दो-मुहां साँप ।
 गुंज—(हि. स्त्री.) भौरों के गुंजने का शब्द, कल-ध्वनि, प्रतिध्वनि, व्याप्त ध्वनि, लट्टू की कील जिस पर वह घूमता है, वाली का पतला भाग जो इसमें मुड़ा रहता है ।
 गुंजना—(हि. क्रि. अ.) भौरों का मनमनाना, प्रतिध्वनित होना ।
 गुंठ—(हि. पुं.) पहाड़ी टट्टू ।
 गुथना—(हि. क्रि. स.) देखें 'गूथना' 'गूथना' ।
 गूथना—(हि. क्रि. स.) आटे को पानी से सानकर हाथों से मलना, मसलना, माड़ना, पिरोना, गूथना ।
 गु—(हि. पुं.) विष्ठा, मल; -मूत—(पुं.) मल-मूत्र, छोटे शिशु का मल-मूत्र फेंकना; (मुहा.)—उछालना—बदनामी करना; का बोझ;—गू का कीड़ा—बहुत मैला-कुचैला या धिनौना व्यक्ति;—का टोकरा—बदनामी—खाना—अत्यन्त अनुचित काम करना;—मूत करना—छोटे शिशु का मल-मूत्र साफ करना;—में घसीटना,—में नहलाना—अत्यन्त कलंकित या अपमानित करना;—में डेला फेंकना—नीच के मुंह लगना ।
 गुगल—(हि. पुं.) देखें 'गुगुल' ।
 गुजर—(हि. पुं.) अहीरों या ग्वालों की एक जाति, देखें 'गुर्जर' ।
 गुजरी—(हि. स्त्री.) गुजरात की स्त्री, गुजर जाति की स्त्री, ग्वालिन, पेर में पहिनने का आभूषण, एक रागिनी का नाम ।
 गुजी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का काला कीड़ा ।
 गुक्षा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्वान्न, बड़ी गुक्षिया, गूदा, फल के भीतर का तन्तु ।
 गूढ़—(सं. वि.) गुप्त, छिपा हुआ, जिसमें बहुत-सा अभिप्राय गुप्त हो, जटिल, कठिन; (पुं.) एक अलंकार, गुप्तांग, रहस्य ।
 गूढ़गेह—(सं. पुं.) यज्ञगृह ।
 गूढ़कामी—(सं. पुं.) काक, कौवा ।
 गूढ़चारी—(सं. वि.) गुप्तचर, भेदिया ।
 गूढ़ज—(सं. वि.) गुप्त जार से विवाहिता स्त्री को अपने घर में उत्पन्न पुत्र ।
 गूढ़ता—(सं. स्त्री.) गुप्तता, छिपाव, गम्भीरता, कठिनता, रहस्य ।
 गूढ़त्व—(सं. पुं.) गंभीरता, कठिनता ।
 गूढ़पथ—(सं. पुं.) अंतःकरण, अंतरात्मा ।

गूढपुरुष—(सं. पुं.) गुप्तचर, भेदिया ।
 गूढमार्ग—(सं. पुं.) गुप्तपथ, सुरंग ।
 गूढांग—(सं. पुं.) उपस्थ, भग, लिंग, गोपनीय अंग ।
 गूढोक्ति—(सं. स्त्री.) एक अलंकार जिसमें कोई गुप्त वार्ता किसी तीसरे मनुष्य के प्रति दूसरे को लक्ष्यकर कही जाती है ।
 गूढोत्तर—(सं. पुं.) किसी गूढ अभिप्राय का उत्तर ।
 गूढोत्पन्न—(सं. पुं.) देखें 'गूढज' ।
 गूथ—(सं. पुं.) विष्टा, मैला ।
 गुथना—(हिं. क्रि. स.) कई वस्तुओं को एक जेरे में पिरोना, ताग में अटकाना, गुथना, भद्दी सिलाई करना ।
 गूढ, गुदर—(हिं. पुं.) फटा-पुराना वस्त्र या चिथड़ा ।
 गुदा—(हिं. पुं.) किसी फल के छिलके के नीचे का सार भाग, गरी, मींगी, खोपड़ी का सार भाग ।
 गुदेदार—(फ्रा. वि.) जिसमें खूब गुदा हो ।
 गुन—(हिं. स्त्री.) नाव खींचने की रस्ती ।
 गुना—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पक्वान्न, एक प्रकार का सुनहला रंग ।
 गुनी—(हिं. स्त्री.) गोनी ।
 गुमा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पौधा जो औषध में प्रयोग होता है, द्रोणपुष्पी ।
 गुरा—(हिं. पुं.) गुल्ला, ढेला ।
 गुलर—(हिं. पुं.) उदुंबर, पीपल और बरगद की जाति का एक बड़ा वृक्ष; उसका फल; (मुहा.)—का कीड़ा—कूप-मंडूक;—का फूल—कोई अलभ्य पदार्थ ।
 गुलू—(हिं. पुं.) एक वृक्ष जिसमें से सफेद गोद निकलता है ।
 गुल्लु—(सं. वि.) लुब्ध, लोभयुक्त ।
 गुध्र—(सं. पुं.) गिद्ध, जटायु पक्षी; (वि.) लोभी ।
 गुध्रसी—(सं. स्त्री.) एक वात रोग जिसमें कमर, पीठ तथा जाँघ में पीड़ा होती है ।
 गुष्टि—(सं. स्त्री.) पहली बार तुरंत ब्याई हुई गाय ।
 गृह—(सं. पुं.) मिट्टी या ईंट का बना हुआ वासस्थान, घर, कुटुम्ब, वंश, कलत्र, भार्या ।
 गृह-उद्योग—(सं. पुं.) घर में फुरसत के समय हाथ से किये जानेवाले छोटे-मोटे उद्योग या धंधे ।
 गृह-कलह—(सं. पुं.) घर का विरोध या झगड़ा ।
 गृहजात—(सं. पुं.) दासीपुत्र, घर की दासी से उत्पन्न पुत्र ।

गृहप, गृहपति—(सं. पुं.) घर का स्वामी, मन्त्री, धर्म, यजमान, अग्निविशेष ।
 गृहपत्नी—(सं. स्त्री.) गृह-स्वामिनी, गृहिणी ।
 गृहपशु—(सं. पुं.) कुक्कुर ।
 गृहप्रवेश—(सं. पुं.) शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में होमादि करके नये घर में प्रवेश ।
 गृहमंत्री, —सचिव—(सं. पुं.) वह मंत्री जिसके हाथ में गृह-विभाग का शासन-प्रबंध हो ।
 गृहयुद्ध—(सं. पुं.) घर के भीतर का झगड़ा, देश के भीतर आपस में युद्ध होना ।
 गृहलक्ष्मी—(सं. स्त्री.) सच्चरित्रा स्त्री ।
 गृहविभाग—(सं. पुं.) शासन-व्यवस्था में वह विभाग जो देश की आंतरिक व्यवस्था या प्रबंध से संबंधित हो ।
 गृहस्थ—(सं. पुं.) गृही, द्वितीय आश्रम-वाला मनुष्य जो ब्रह्मचर्य के बाद विवाह करके घर में बसे, घरदारवाला, खेतिहर, किसान ।
 गृहस्थाश्रम—(सं. पुं.) चार आश्रमों में से दूसरा आश्रम जिसमें लोग विवाह करके घर में रहते हैं ।
 गृहस्थी—(हिं. स्त्री.) गृहस्थ का कर्तव्य, घरबार, कुटुम्ब, लड़का-बाला, परिवार, घर का सामान, खेती-बारी, किसानी का काम ।
 गृहस्वामी—(सं. पुं.) घर का मालिक ।
 गृहाक्ष—(सं. पुं.) गवाक्ष, झरोखा, छोटी खिड़की ।
 गृहागत—(सं. वि., पुं.) दूसरे के घर आया हुआ (मनुष्य), अतिथि ।
 गृहाधिप—(सं. पुं.) गृहस्वामी, घर का रक्षक ।
 गृहिणी—(सं. स्त्री.) घर की स्वामिनी, भार्या, पत्नी ।
 गृही—(सं. पुं.) गृहस्थाश्रमी, गृहस्थ ।
 गृहीत—(सं. वि.) स्वीकृत, प्राप्त किया हुआ ।
 गृहोत्पात—(सं. पुं.) घर का विघ्न या उपद्रव ।
 गृह्य—(सं. वि.) विनीत, वक्ष्य, घर में उत्पन्न ।
 गृह्यसूत्र—(सं. पुं.) वैदिक पद्धति जिसके अनुसार द्विजा के संस्कार होते हैं ।
 ग्रेगटा—(हिं. पुं.) कर्कट, केंकड़ा ।
 ग्रेठी—(हिं. स्त्री.) वाराहीकन्द ।
 ग्रेड, ग्रेडा—(हिं. पुं.) ऊख के ऊपर का पत्ता, अगौरा ।
 ग्रेडना—(हिं. क्रि. स.) खावें से खेत घेरना, अन्न रखने के लिये मेड़ बनाना, घेरना, कुल्हाड़ी से काटना ।
 ग्रेडली—(हिं. स्त्री.) कुंडली, फेंटा, गेंडुरी ।
 गेंडुआ—(हिं. पुं.) तकिया, सिरहाना, वड़ा गेंद ।
 गेंडुरी—(हिं. स्त्री.) घड़ा रखने का मँडरा, विडवा, फेंटा, कुंडली, सपों का

वर्तलाकार बैठना ।
 गेंद—(हिं. पुं. वा स्त्री.) कपड़े, स्वर आदि का बना हुआ खेलने का गीला, कन्दुक ।
 गेंदई—(हिं. वि.) गेंदे के फूल के रंग का ।
 गेंदतड़ी—(हिं. स्त्री.) एक दूसरे को गेंद से मारने का खेल ।
 गेंदवा—(हिं. पुं.) तकिया, सिरहाना, गेंडुआ ।
 गेंदा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का लाल या पीले रङ्ग के फूल का पौधा, इसका फूल, गेंद ।
 गेंदुक—(सं. पुं.) देखें 'गेंद' ।
 गेंदुर—(हिं. पुं.) चमगादड़ ।
 गेंदुवा—(हिं. पुं.) गेंडुआ, तकिया ।
 गेगला—(हिं. वि.) मूख, जड़ ।
 गेड़ना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'गेंडना' ।
 गेदा—(हिं. पुं.) चिड़िया का छोटा बच्चा जिसके पर न निकले हों ।
 गेनुर—(हिं. पुं.) चारे के रूप में पशुओं को खिलाने की एक प्रकार की घास ।
 गेय—(सं. पुं.) गीत, गान; (वि.) गाने योग्य ।
 गेरना—(हिं. क्रि. स.) गिराना, डालना ।
 गेराँव—(हिं. पुं.) गाय-बैलों को बाँधनेवाले पगहे का वह भाग जो गले में रहता है ।
 गेरुआ—(हिं. वि.) गेरू के रंग का, मट-मैलापन लिये लाल रंग का, जोगिया रंग का; —ब्राना—(पुं.) योगियों का गेरुआ वस्त्र ।
 गेरुई—(हिं. स्त्री.) कृपि का एक रोग ।
 गेरु—(हिं. स्त्री.) खान से निकलनेवाली एक प्रकार की लाल मिट्टी, गैरिक ।
 गेह—(सं. पुं.) गूह, घर ।
 गेहनी—(हिं. स्त्री.) गृहिणी, घरनी, भार्या, पत्नी ।
 गेहिनी—(सं. स्त्री.) गृहिणी, भार्या ।
 गेही—(सं. पुं.) गृहस्थ ।
 गेहैअन—(हिं. पुं.) एक बहुत विषैला नूरे रंग का सपें ।
 गेहुआ—(हिं. वि.) गहूँ के रंग का, वदामी ।
 गेहूँ—(हिं. पुं.) गोधूम, एक प्रसिद्ध अन्न जिसका आटा खाया जाता है ।
 गेंडा—(हिं. पुं.) मैसे के आकार का एक पशु जिसकी नाक पर सींग होता है; (यह विशेषतः कीचड़ में रहता है ।)
 गैती—(हिं. स्त्री.) भूमि खोदने का एक अस्त्र, कुदाल ।
 गैन—(हिं. पुं.) गैल, मांग ।
 गैना—(हिं. पुं.) छोटा ताटा वैल ।
 गैदी—(हिं. वि.) अजनबी, बिना जान-पहचान का, अज्ञात ।

गैपा-(हि. स्त्री.) गौ, गाय, गऊ।
 गैर-(अ. वि.) दूसरा या अन्य, मित्र;
 -जहरी-(वि.) जो आवश्यक न हो,
 अनावश्यक; -जिम्मेदार-(वि.) लाप-
 रवाह, दायित्वहीन; -मूनासिध-(वि.)
 अनुचित; -मुस्तकिल-(वि.) अस्वायी;
 -वाजिब-(वि.) अनुचित; -सरकारी-
 (वि.) जो सरकारी न हो; -हाजिर-
 (वि.) अनुपस्थित; -हाजिरी-(स्त्री.)
 अनुपस्थिति।
 गैरसी-(हि. स्त्री.) गले में पहिनने की
 हथुली।
 गैरिक-(सं. पुं.) गेरू मिट्टी, सुवर्ण, सोना।
 गैरेय-(सं. पुं.) शिलाजतु, शिलाजीत।
 गैल-(हि. स्त्री.) मार्ग, रास्ता, गली।
 गैलड़-(हि. पुं.) स्त्री के पहिले पति का
 पुत्र जिसको लेकर वह दूसरे पति के पास
 जाय।
 गैला, गैलारा-(हि. पुं.) गाड़ी के पहिये
 की लीक।
 गैस-(अं. स्त्री.) वायु की तरह का बहुत
 ही फैलनेवाला भौतिक तत्त्व जिसके
 संयोग से जल, वायु आदि तत्त्व बने हैं।
 गैडेंडा-(हि. पुं.) जलाने का गोबर का
 मुत्ताया हुआ गोल चिपटा टुकड़ा,
 उपला, गोहरा।
 गैडेंड-(हि. पुं.) गांव की बस्ती के
 आसपास की भूमि, गांव की सीमा।
 गैडेंयां-(हि. पुं.) साथ रहनेवाला,
 साथी, सहचर।
 गैडें-(हि. स्त्री.) बेलों की जोड़ी।
 गैड-(हि. वि.) चुराने या छिपानेवाला।
 गैड-(हि. स्त्री.) गलमुच्छा, मींछ।
 गैड-(हि. स्त्री.) गोष्ठ, कमर पर की
 धोती की लपेट, मुरी।
 गैडना-(हि. क्रि. स.) चारों ओर रेखा
 खींचना, घेरना या परिक्रमा करना,
 गुप्तिया आदि की कोर मोड़ना।
 गैडनी-(हि. स्त्री.) गुप्तिया बनाने का
 उपकरण।
 गैड-(हि. पुं.) एक यूर जाति, कहार जाति।
 गैडरा-(हि. पुं.) गाल लकड़ी जो मोट
 के मुग पर बोधी जाती है, परिधि, घेरा।
 गैडरी-(हि. स्त्री.) मंडरा, इंडुरी।
 गैडा-(हि. पुं.) घेरा हुआ स्थान, बाड़ा,
 गांव, बड़ी चोड़ी गड़क, एक जिला।
 गैड-(हि. पुं.) बूझों से निकलनेवाला
 अमराज निर्माण।
 गैड-बानो-(हि. स्त्री.) वह बरतन जिनमें
 गैड रखा जाता है।

गौंद-पंजीरी-(हि. स्त्री.) गौंद मिली हुई
 पंजीरी जिसे प्रमूता स्त्रियों को
 खिलाया जाता है।
 गौंद-पाग-(हि. पुं.) गौंद और चीनी के
 संयोग से बनी एक मिठाई।
 गौंदरा-(हि. पुं.) कोमल घास या पुआल
 की बनी मोटी चटाई।
 गौंदरी-(हि. स्त्री.) घास-पात की बनी
 हुई चटाई।
 गौंदा-(हि. पुं.) गूँदा हुआ सत्तू।
 गौंदीला-(हि. वि.) जिस वृक्ष में से
 गौंद निकलता हो।
 गो-(सं. स्त्री.) गाय, गऊ, पृथ्वी, जल,
 माता, स्वर्ग, इंद्रिय, चक्षु, आँख, सरस्वती,
 वाणी, दिशा, विजली, किरण, वृषराशि;
 (पुं.) हीरा, नव की संख्या, रोयाँ,
 घोड़ा, गवैया, आकाश, प्रशंसा
 करनेवाला, बेल, नंदी नामक शिव-
 गण, वज्र।
 गोकंकट-(सं. पुं.) गोखरू का पौधा।
 गोकर्ण-(सं. पुं.) सपं, खच्चर, मृगविशेष;
 गोकर्णो-(सं. स्त्री.) मूर्वालता।
 गोकिल-(सं. पुं.) मूसल, लाङ्गल, हल।
 गोकुल-(सं. पुं.) गौसमूह, गोशाला, एक
 प्राचीन गाँव जो मथुरा से पूर्व-दक्षिण
 की ओर स्थित था।
 गोकोस-(हि. पुं.) उतनी दूरी जहाँ तक
 गाय के बोलने का शब्द सुनाई पड़े।
 गोकि-(हि. अव्य.) यद्यपि।
 गोकुर-(सं. पुं.) गोखरू नामक पौधा,
 उसका फल।
 गोखग-(हि. पुं.) यलचर, पशु, जानवर।
 गोखरू-(हि. पुं.) एक पौधा, गोटा तथा
 वादला गूँथकर बनाया हुआ साज,
 कलाई में पहिनने का एक आभूषण, पैर
 या हाथ के तलवे में होनेवाला एक
 रोग जिसमें रूखे, कड़े घट्टे पड़ जाते हैं।
 गोखा-(हि. पुं.) मोखा, झरोखा।
 गोगृष्टि-(सं. स्त्री.) केवल एक बार
 ब्याई हुई गाय।
 गोग्रास-(सं. पुं.) श्राद्धादि में गौ को
 देने के लिये निकाला हुआ भोजन का
 अंश।
 गोघातक-(सं. पुं.) गाय की हत्या करने-
 वाला, कसाई।
 गोचंदन-(सं. पुं.) एक प्रकार का चंदन।
 गोचंदना-(सं. स्त्री.) एक प्रकार की
 जहरीली जोंक।
 गोचना-(हि. क्रि. स.) रोकना, रोकना;
 (पुं.) गैहूँ मिला हुआ तना।

गोचनी-(हि. स्त्री.) महीन छेद करने
 का यंत्र।
 गोचर-(सं. वि., पुं.) इन्द्रियों द्वारा शेष
 (विषय), ज्ञान-विषय, गौ के चरने का
 स्थान, चरागाह।
 गोचरी-(हि. स्त्री.) मिखावृत्ति, मीस
 माँगने का व्यवसाय।
 गोचई-(हि. स्त्री.) जब मिथित गेहूँ।
 गोजर-(हि. पुं.) कनखजूरा।
 गोजल-(सं. पुं.) गाय का मूत्र, गोमूत्र।
 गोजला-(सं. पुं.) तण्डुल, चावल, धान;
 (हि. पुं.) चरवाहे का चौपायों को
 हाँकने का डंडा।
 गोजित्-(सं. पुं.) पृथ्वी को जय करनेवाला।
 गोजी-(हि. स्त्री.) गाय हाँकने की
 छड़ी, बड़ी लाठी, लट्ट।
 गोखनबद-(हि. स्त्री.) अंचल, स्त्रियों की
 साड़ी का वह भाग जो सिर और पीठ
 पर रहता है।
 गोक्षा-(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्वान्न,
 गुप्तिया, एक प्रकार की कंटोली घास,
 खलीता।
 गोठ-(हि. स्त्री.) कपड़े के किनारे पर
 शोभा के लिये लगाई जानेवाली पट्टी,
 किनारी, समुदाय, टोली, मण्डली,
 चौपड़ का मोहरा, गोटी, वाग-वगीचे
 की सिर; (पुं.) गाँव।
 गोटा-(हि. पुं.) वादले की विनी हुई
 सुनहली या रुपहली पट्टी जो कपड़ों के
 किनारे पर सिली जाती है, सूखा हुआ
 मल, कंडी, सुहा।
 गोटी-(हि. स्त्री.) लड़कों के खेलने का
 गोल टुकड़ा या कंकड़, चौपड़ का मोहरा,
 उपाय, लाभ, युक्ति; (मुह.) -जमना
 या बेंठना-उपाय या युक्ति सफल
 होना; -मरना-किसी की गोटी का खेल
 में काम न आ सकना; -लाल होना-
 चौसर आदि की गोटी का सब खानों
 से फिरकर उठ जाना, कामयाबी होना।
 गोठ-(हि. स्त्री.) गोष्ठ, गोशाला, श्राद्ध, सैर।
 गोठिल-(हि. वि.) कुण्ठित, कुन्द, जिसकी
 चार पैनी न हो।
 गोड़-(हि. पुं.) पैर, पाँव; (मुहा.)
 -भरना-पाँव में महाघर लगाना;
 -लगना-पाँव छूना।
 गोड़इत-(हि. पुं.) गाँव में पहरा देने-
 वाला पहरेदार।
 गोड़गाव-(हि. पुं.) घोड़े के पिछले पैर में
 बाँधने की रस्सी।
 गोड़न-(हि. पुं.) मिट्टी से नमक बनाने

की क्रिया ।

गोड़ना—(हि.क्रि.स.) मिट्टी खोदकर या उलट-पलटकर पीली करना, कोड़ना ।

गोड़ली—(हि. पुं.) नाचने में प्रवीण पुरुष ।

गोड़वांस—(हि. पुं.) रस्सा जिससे पशु का पैर खूँटे से बाँधा जाता है ।

गोड़वाना—(हि.क्रि.स.) गोड़ने का काम दूसरे से कराना ।

गोड़सांकरा—(हि. पुं.) स्त्रियों के पैर का एक आमूषण ।

गोड़ा—(हि. पुं.) पलंग आदि का पाया, घोड़िया ।

गोड़ाई—(हि. स्त्री.) गोड़ने की क्रिया या शुक ।

गोड़ाना—(हि.क्रि.स.) गोड़ने का काम दूसरे से कराना ।

गोड़ापाई(ही)—(हि. स्त्री.) वारंवार आना-जाना ।

गोड़ारी—(हि. स्त्री.) पलंग का वह सिरा जिधर पैर रहता है, पैताना, जूता ।

गोड़ब—(सं. पुं.) शृगाल, सियार, गौदड़ ।

गोड़िया—(हि.स्त्री.) उपाय करनेवाला; (स्त्री.) छोटा पाया या गोड़ा ।

गोड़ी—(हि. स्त्री.) लाम, बकरे आदि के पैर की नली ।

गोण—(सं. पुं.) वृषभ, बैल ।

गोणी—(सं. स्त्री.) -वोरा, मोटा वस्त्र, टाट, एक प्राचीन परिमाण ।

गोत—(हि.पुं.) गोत्र, कुल, समूह, वेहोशी ।

गोतम—(सं. पुं.) न्याय-दर्शन के रचयिता गौतम ऋषि ।

गोतमी—(सं.स्त्री.) अहल्या, गौतम ऋषि की पत्नी, गोदावरी नदी ।

गोता—(हि. पुं.) जल आदि में डूबने की क्रिया, डुब्की; -खोर—(वि.) डुबकी लगानेवाला; (मुहा.)-खाना-घोखे में पड़ना; -मारना-डुबकी लगाना, लुप्त होना ।

गोतिया, गोती—(हि.वि., पुं.) अपने गोत्र के (माई-बन्धु जिनके साथ शौचाशौच का सम्बन्ध हो ।)

गोतीत—(सं. वि.) अगोचर, जो इन्द्रियों से न जाना जा सके ।

गोत्र—(सं. पुं.) वंश का नाम, पर्वत, क्षेत्र, मार्ग, समूह, वृद्धि, बढ़ती, धन, राजा का छत्र, माई-बन्धु, वंश, सन्तति, कुल, एक प्रकार का जाति-विभाग; -ज—(वि.) एक ही गोत्र में उत्पन्न, एक ही पूर्वज की सन्तान; -सुता—(स्त्री.) पर्वत-नन्दिनी, पार्वती ।

गोत्रा—(सं. स्त्री.) पृथ्वी, गो-समूह ।

गोत्री—(सं.वि.) समान गोत्रवाला, गोतिया ।

गोदंती—(सं.स्त्री.) कच्ची या सफेद हरताल ।

गोद—(हि.स्त्री.) उत्संग, क्रोड़, कोरा, वक्षस्थल के पास का स्त्रियों की साड़ी का भाग, अंचल; (मुहा.)-बिठाना-दत्तक बनाना; -बैठना-दत्तक बनाया जाना; -भरना-सोहागिन स्त्री के अंचल में नारियल आदि डालना, संतान उत्पन्न होना; -लेना-दत्तक ग्रहण करना ।

गोद-नशान—(हि. पुं.) वह जिसे किसी ने गोद लिया हो, दत्तक ।

गोद-नशानी—(हि. स्त्री.) दत्तक बनना, दत्तक-ग्रहण ।

गोद-नशानी—(हि. पुं.) शीतला का टीका लगानेवाला ।

गोद-नशानी—(हि. स्त्री.) गोदना गोदनेवाली स्त्री ।

गोदना—(हि. क्रि. स.) गड़ाना, चुमाना, किसी काम के लिये वारंवार प्रयत्न करना, हाथी को अंकुश लगाना, ताना मारना, मर्मवेधी बात कहना; (पुं.) तिल के आकार का काला चिह्न जो शरीर के किसी भाग पर बनाया जाता है ।

गोदनी—(हि.स्त्री.) गोदना गोदने की सूई ।

गोदा—(हि. पुं.) बड़, पीपल या पाकर का पका फल; (सं.स्त्री.) गोदावरी नदी ।

गोदान—(सं. पुं.) द्विजाति का केशान्त संस्कार, गाय या बैल का विधिवत् दान ।

गोदाम—(हि.पुं.) व्यापार के मालसुरक्षित रखने का स्थान ।

गोदावरी—(सं. स्त्री.) भारतवर्ष के दक्षिण भाग की एक बड़ी नदी ।

गोदी—(हि. स्त्री.) देखें 'गोद' ।

गोघ—(हि. स्त्री.) गोह नामक सरीसृप ।

गोघन—(सं. पुं.) गौओं का समूह, गौरूपी सम्पत्ति, चौड़े फल का तीर ।

गोघर—(सं. पुं.) पर्वत, पहाड़ ।

गोवा—(हि. स्त्री.) गोह नामक जन्तु ।

गोवम—(सं. पुं.) गेहूँ ।

गोवूलि—(सं. स्त्री.) सन्ध्या का समय, गाय के खुर से उड़ती हुई धूल जो इनके सूर्यास्त के करीब जंगल से चरकर लौटते समय उठती है ।

गोन—(हि. स्त्री.) बलों की पीठ पर लादने के लिये अन्न भरने का चमड़े, टाट इत्यादि का बोरा, सामान्य बोरा, टाट का थैला, नाव खींचने की रस्ती ।

गोनरखा—(हि. पुं.) नाव का मस्तूल ।

गोनरा—(हि. पुं.) एक प्रकार की

लम्बी घास ।

गोनद—(सं. पुं.) सारस पक्षी, नागर-मोया नाम की घास, महादेव, शिव, पतञ्जलि की जन्मभूमि ।

गोनस—(सं. पुं.) एक प्रकार का सर्प, वैक्रान्त-मणि ।

गोना—(हि.क्रि.स.) गुप्त रखना, छिपाना ।

गोनिया—(हि. स्त्री.) भीत की सीव अथवा कोना नापने का एक यंत्र, (पुं.) बोरा ढोनेवाला, रस्सी बाँधकर नाव खींचनेवाला ।

गोनी—(हि. स्त्री.) टाट का थैला, बोरा, पटुआ, सन ।

गोप—(सं. पुं.) गौ की रक्षा करनेवाला, ग्वाला, अहीर, गाँव का मालिक, राजा, गोशाला का प्रबंध करनेवाला, उपकारक, वीर, एक गन्धर्व का नाम, गले में पहिनने का एक आमूषण ।

गोपक—(सं. पुं.) गोप, ग्वाला, रक्षक ।

गोपति—(सं.पुं.) शिव, महादेव, कृष्ण, विष्णु, राजा, इंद्र, गोपाल, ग्वाला ।

गोपद—(सं. पुं.) गाय के खुर का चिह्न ।

गोपन—(सं. पुं.) छिपाव, दुराव, रक्षा, धृणा, व्याकुलता, दीप्ति ।

गोपना—(हि. क्रि. स.) छिपाना ।

गोपनीय—(सं.वि.) छिपाने योग्य, रक्षणीय ।

गोपांगना—(सं. स्त्री.) गोप-स्त्री, ग्वाला की स्त्री ।

गोपा—(सं. स्त्री.) श्यामा लता, गाय पालनेवाली ग्वालिन ।

गोपाल—(सं. पुं.) गोरक्षक, श्रीकृष्ण, अहीर, ग्वाला, पन्द्रह मात्राओं का एक छन्द ।

गोपाली—(सं.स्त्री.) गोप-पत्नी, ग्वालिन ।

गोपाष्टमी—(सं.स्त्री.) कार्तिक सुदी अष्टमी ।

गोपिका—(सं. स्त्री.) गोप की स्त्री, अहिरिन ।

गोपित—(सं. वि.) गुप्त, छिपाया हुआ ।

गोपित्त—(सं.पुं.) गोरोचन नामक गंध-द्रव्य ।

गोपिया—(हि. स्त्री.) ढेलवांस ।

गोपी—(सं. स्त्री.) गोपपत्नी, अहिरिन, गोपन करनेवाली; -चंदन—(हि.पुं.) एक प्रकार की पीली मिट्टी जिसको वृष्णव लोग शरीर और मस्तक पर लगाते हैं ।

गोपीत—(हि.पुं.) एक प्रकार का खंजन पक्षी ।

गोपीनाथ—(सं. पुं.) गोपियों के स्वामी, श्रीकृष्ण ।

गोपुच्छ—(सं. पुं.) गाय की पूँछ, एक प्रकार का हार, प्राचीन काल का एक प्रकार का बाजा ।

गोपुर—(सं. पुं.) गढ़ या नगर का

फाटक, स्वर्ग, गोलोक ।

गोपुरीय-(सं. पुं.) गोमय, गोवर ।

गोपेन्द्र-(मं. पुं.) धोरुष्य ।

गोप्य-(सं. वि.) गोपनीय, छिपाने योग्य;
(पुं.) दास, सेवक, दासी-पुत्र ।

गोफन(ना)-(हिं. पुं.) डेलवांस ।

गोफा-(हिं. पुं.) नया निकला हुआ
पत्ता, गाना ।

गोवर-(हिं. पुं.) गौ की दिव्या, गौ
का मल; -का चोंच या चोच-(पुं.)

निपट मूर्ख, निर्बुद्धि व्यक्ति; -गणेश-(हिं.
वि.) मद्दा, मूर्ख; -हारा-(हिं. पुं.) गोवर

उठाने या पायनेवाला नौकर; (क्रि.प्र.)
-पायना-गोवर के गोहरे बनाना ।

गोवरी-(हिं. स्त्री.) कंठा, उपला,
गोहरा, गोवर का लेप ।

गोवरीला, गोवरीरा, गोवरीला-(हिं.
पुं.) गोवर में रहनेवाला एक प्रकार

का कीड़ा, गुवरैला ।

गोभ-(हिं. पुं.) पीधे का एक रोग ।

गोभा-(हिं. पुं.) प्रकुर ।

गोभिल-(सं. पुं.) सामवेदी गृहामूत्र के
रचयिता एक ऋषि का नाम ।

गोभी-(हिं. स्त्री.) फूल गोभी, एक
प्रकार की तरकारी, एक प्रकार की

घास, वनगोभी ।

गोमंडल-(सं. पुं.) गुमण्डल, किरण-समूह ।

गोम-(हिं. पुं.) घाड़ों की एक सौरी ।

गोमती-(सं. स्त्री.) उत्तर प्रदेश की
एक नदी, वासिष्ठी (प्राचीन नाम),

ग्यारह मात्राओं का एक छन्द ।

गोमय-(सं. पुं.) गोविष्ठा, गोवर ।

गोमर-(हिं. पुं.) कसाई ।

गोमल-(सं. पुं.) गोवर ।

गोनायु-(सं. पुं.) शृगाल, सियार ।

गोमुत-(सं. पुं.) गौ का मुख, नरसिंहा
नाम का राजा, टेढ़ामेढ़ा घर, गौ के

मुत के आकार का एक प्रकार का
गरा, गोमुती ।

गोमुती-(सं. स्त्री.) हिमालय पर्वत पर
गंगा के उद्गम स्थान पर की गुहा या

कन्दरा, जप माला की थैली ।

गोमूत्र-(मं. पुं.) गौ का मूत्र ।

गोमूत्रिका-(मं. स्त्री.) एक प्रकार का
चित्र काव्य ।

गोमूग-(मं. पुं.) गवय, नीलगाय ।

गोमेद, गोमेदक-(मं. पुं.) एक प्रकार का
मणि जो कुछ लवणों लिये पीला होता

है, गीतगर्ण ।

गोमेय-(मं. पुं.) गोमय, एक वैदिक यज्ञ

जिसमें गोमांस का हवन होता था ।

गोयेंड-(हिं. पुं.) गोईड़, वस्ती के पास
सटा हुआ खेत ।

गोयंदा-(फा. पुं.) जामूत, मेदिया ।

गोया-(फा. अव्य.) मानो, जैसे ।

गोरल-(सं. पुं.) एक प्रकार का विपैला
साँप ।

गोरक्षरु-(सं. वि.) गोपालक, खाला ।

गोरख-(हिं. पुं.) गोरखनाथ ।

गोरख-इमली-(हिं. स्त्री.) दक्षिण भारत
में होनेवाला एक बहुत बड़ा वृक्ष ।

गोरखश्रवा-(हिं. पुं.) पहेली; अनेकतारों,
कड़ियों या काठ के टुकड़ों का समूह,

जगड़ा या उलक्षण का व्यापार, पंच,
जगड़ा, झमेला ।

गोरखनाथ-(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध हठयोगी
का नाम ।

गोरखपंथी-(हिं. वि.) गोरखनाथ के
सम्प्रदाय का ।

गोरखमुंडी-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की
घास जिसमें गुलाबी रंग के छोटे गोल

फूल निकलते हैं ।

गोरखर-(फा. पुं.) गधे की जाति का
एक जंगली पशु ।

गोरखा-(हिं. पुं.) नेपाल के अन्तर्गत
एक प्रदेश, इस प्रान्त का निवासी ।

गोरज-(सं. पुं.) गौ के खुरों से उड़ी
हुई बूँल ।

गोरटा-(हिं. वि.) गोरे रंग का, गोरा ।

गोरस-(सं. पुं.) गाय का दूध, दही, मठा,
छाछ, इन्द्रिय-सुख ।

गोरसा-(हिं. पुं.) गाय के दूध से पला
हुआ बच्चा ।

गोरसी-(हिं. स्त्री.) दूध गरम करने की
अंगीठी ।

गोरा-(हिं. वि.) गौर-वर्ण, श्वेत और
स्वच्छ रंग का (मनुष्य); (पुं.) यूरोप,

अमेरिका आदि का निवासी ।

गोराई-(हिं. स्त्री.) गोरापन, सुन्दरता ।

गोराटी-(सं. स्त्री.) सारिका पक्षी, मैना ।

गोरी-(हिं. वि. स्त्री.) सुन्दर गौरवर्ण की (स्त्री)
गोह-(हिं. पुं.) सींगवाला पशु, चौपाया ।

गोहप-(सं. पुं.) गिब, महादेव ।

गोरोचन-(सं. पुं.) एक प्रकार का पीला गंध-
द्रव्य जो गौ के पित्त से निकलता है ।

गोखी-(हिं. पुं.) देवों 'गोरखा' ।

गोलंदाज-(हिं. पुं.) गोला चलानेवाला
मैनीक, तोपची ।

गोलंदाजी-(हिं. स्त्री.) गोला चलाना,
गोलंदाज का काम ।

गोलंवर-(हिं. पुं.) गुंवद, गोलाई, वगीचे
में बना हुआ गोल चबूतरा ।

गोल-(सं. पुं.) वृत्ताकार पदार्थ, विषवा
का जारज पुत्र, आकाश-मंडल, वृत्त,

गोलाकार पिण्ड; (हिं. वि.) सब ओर
वतुल, गेंद के आकार का; -गोल-

(अव्य.) स्थूल तौर पर, मोटे हिसाब से,
अस्पष्ट रूप से; -वात-(स्त्री.) अस्पष्ट

या संदेहपूर्ण वात; -मटोल-(वि.)
जिसका कोई साफ अर्थ न हो, अस्पष्ट;

-माल-(पुं.) गड़बड़, घपला; -मिर्च-

(स्त्री.) काली मिर्च ।

गोल-(अं. पुं.) फुटबाल, हाकी आदि
खेल में वह स्थान जिसके भीतर गेंद चले

जाने से हार-जीत मानी जाती है ।

गोल-(फा. पुं.) मंडली, झुंड; (क्रि. प्र.)
-बाँधना-गुटवंदी करना ।

गोलक-(सं. पुं.) माणिक, गुण, मटर,
गोल पिण्ड, बोल नामक औषधि; आँख

का डेला, आँख की पुतली, गोलोक
वैकुण्ठ-धाम, मिट्टी का बड़ा कुण्डा,

विषवा के गर्भ से उत्पन्न पुत्र; (हिं. पुं.)
गुम्बद, प्रतिदिन के आय का घन रखने

की थैली, गुल्लक, गल्ला, किसी विशेष
कार्य के लिये धन-संग्रह रखन का गुल्लक

गोलगप्पा-(हिं. पुं.) एक तरह का खाने
का पकवान जो खटाई के रस में डुबाकर

खाया जाता है ।

गोलदार-(हिं. पुं.) क्रय-विक्रय करनेवाला
गोलयंत्र-(सं. पुं.) ग्रह-नक्षत्र आदि की

गति जानने का यन्त्र विशेष ।

गोलयोग-(सं. पुं.) ज्योतिष का एक
बुरा योग, गोलमाल, गड़बड़ी ।

गोलविद्या-(सं. स्त्री.) ज्योतिषविद्या।
ज्योतिष शास्त्र का एक अंग ।

गोला-(हिं. पुं.) किसी पदार्थ का वर्तुला-
कार पिण्ड, तोप का गोला, वायुगोला,

नारियल या बेल का खोखला किया हुआ
खोपड़ा, नारियल की समूची गरी, अन्न

आदि रखने का गोदाम, घास का गूठर
किराने की मण्डी, छाजन का लंब

लट्ठा, मूत आदि की लपेटी हुई पिंडी,
गोलाई-(हिं. स्त्री.) गोलापन, गोलआकार

गोलाकार, गोलाकृति-(सं. वि.) गोल
आकृतिवाला ।

गोलाधार-(हिं. वि.) मूसलधार ।

गोलायं-(सं. पुं.) पृथ्वी का आधा भाग
जो उसके एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक

बीचोबीच रेखा बीचोबीच से बनता है ।

गोलियाना-(हिं. क्रि. स.) किसी वस्तु को

गोल बनाना ।

गोली-(हि.स्त्री.)वर्तुलाकार छोटा पिण्ड, वटिका, टिकिया, दवा की बटी, लड़कों के खेलने का काँच या मिट्टी का छोटा गोलाकार पिण्ड, गोली का खेल, छोटा घड़ा, बंदूक में भरकर छोड़ने का सीसे या लोहे का छोटा गोल पिण्ड ।

गोलोक-(सं.पुं.) वह सुन्दर पवित्र स्थान जहाँ देवता लोग रहते हैं, परम-धाम ।

गोलोकेश-(सं. पुं.) श्रीकृष्णचन्द्र ।

गोलोचन-(हि. पुं.) देखें 'गोरोचन' ।

गोवत्स-(सं. पुं.) गाय का बछड़ा ।

गोवना-(हि.क्रि.स.) छिपाता, ढकना ।

गोवर्धन-(सं. पुं.) गाय की वृद्धि, वृन्दावन का एक पर्वत जिसको श्रीकृष्ण ने गोपों को बचाने के लिये अपनी कानी अँगुली पर उठाया था ।

गोविन्द-(सं. पुं.) श्रीकृष्ण, गौवों का अध्यक्ष, परब्रह्म, वेदान्तवेत्ता, तत्त्वज्ञ, गोमेदमणि ।

गोविन्द-(सं. स्त्री.) गोमय, गोबर ।

गोविसर्ग-(सं. पुं.) प्रातःकाल, तड़का ।

गोशकृत्-(सं. पुं.) गाय का गोबर ।

गोशाला-(सं. स्त्री.) गौ के रहने का स्थान, गोष्ठ ।

गोशत-(फा. पुं.) मांस ।

गोष्ठ-(सं. पुं.) गोशाला, गौ के रहने का स्थान, गोष्ठी, परामर्श, सलाह, दल, मण्डली ।

गोष्ठी-(सं.स्त्री.) बहुत से लोगों का समूह, समा, वातालाप, बातचीत, परामर्श, मण्डली, एक ही अंक का नाटक या रूपक ।

गोण्ड-(सं. पुं.) गौ के खुर का बना गड्ढा, गोपद ।

गोसा-(हि. पुं.) गोइँठा, उपला ।

गोसाई-(हि. पुं.) गौवों का स्वामी, गोस्वामी, जिसने इन्द्रियों को अपने वश में कर लिया हो, ईश्वर, विरक्त, साधु, मालिक, प्रभु, संन्यासियों का एक सम्प्रदाय ।

गोसर्था-(हि. पुं.) मालिक, प्रभु, ईश्वर ।

गोस्तना-(सं. पुं.) अंगूर का गुच्छा, चार लड़ियों का हार ।

गोस्तनी-(सं.स्त्री.) द्राक्षा, दाख, मुनक्का ।

गोस्थान-(सं. पुं.) गौ के रहने का स्थान, गोशाला ।

गोस्वामी-(सं. पुं.) गौवों का मालिक, एक उपाधि जो उन यति लोगों को पूर्वकाल में दी जाती थी जो इन्द्रियों को अपने वश में कर लेते थे, वैष्णव सम्प्रदाय का आचार्य ।

गोह-(हि. स्त्री.) छिपकली की जाति का एक जंगली जन्तु ।

गोहन-(हि. पुं.) साथी, संग रहनेवाला, संग-साथ ।

गोहनियाँ-(हि. पुं.) संगी, साथी ।

गोहर-(हि. पुं.) विसखोपड़ा नामक जन्तु जो सर्प और गोह से पैदा होता है ।

गोहरा-(हि. पुं.) सुखाया हुआ गोबर जो जलाने के काम में आता है, उपला ।

गोहराना-(हि.क्रि.स.) पुकारना, बुलाना, शब्द करना ।

गोहरौर-(हि. पुं.) पाथे हुए गोहरों का ढेर ।

गोहार-(हि. स्त्री.) पुकार, दोहाई, बोरगुल, चिल्लाहट, हल्लागुल्ला ।

गोहारि(री)-(हि. स्त्री.) गोहार, हानि-पूति करने के लिये दिया हुआ धन ।

गोही-(हि. स्त्री.) गुप्त वार्ता, छिपी बात, छिपाव, महुए के फल का बीज ।

गोहुअ(व)न-(हि. पुं.) एक प्रकार का विषघर सर्प, गेहुँअन ।

गोह्य-(सं.वि.) अप्रकाश्य, छिपाने योग्य ।

गौ-(हि.स्त्री. वा पु.) सुयोग, अवसर, दौंव, घात, प्रयोजन, ढंग, पक्ष; -का धार-(पुं.) अपना अर्थ साधनेवाला; -घात-(पुं.) अच्छा अवसर; -से-(अव्य.) चुपके से; (मुहा.) -पड़ना-गरज होना ।

गौटा-(हि. पुं.) छोटा गाँव या वस्ती ।

गौ-(सं. स्त्री.) गाय, गैया ।

गौख-(हि.स्त्री.) खिड़की, झरोखा, दालान ।

गौखा-(हि. पुं.) झरोखा, अरवा, आला, गाय का चमड़ा ।

गौगा-(अ. पुं.) हल्ला, बोर ।

गौचरी-(हि. स्त्री.) गाय चराने का कर ।

गौड़-(सं. पुं.) एक प्राचीन देश का नाम जो आधुनिक बंग देश या बंगाल कहलाता है, ब्राह्मणों की एक जाति, कायस्थों का एक भेद, (गौड़, सारस्वत, कान्यकुब्ज, उत्कल और मैथिल-ये पंचगौड़ ब्राह्मण कहलाते हैं), देवगिरि और गान्धार के योग से उत्पन्न एक राग ।

गौड़ी-(सं.स्त्री.) गुड़ से बनी हुई मदिरा ।

गौड़िया, गौड़िया-(सं.वि.) गौड़ देश का ।

गौण-(सं. वि.) अप्रवान, अमुख्य, साधारण, गुणसंबंधी ।

गौणी-(सं. स्त्री.) विविध प्रकार की लक्षणाओं में से एक जिसमें केवल एक वस्तु का गुण लेकर दूसरे में आरोपित किया जाता है; (वि. स्त्री.) अप्रवान, साधारण, जो मुख्य न हो ।

गौतम-(सं. पुं.) गौतम ऋषि के वंशज,

भारद्वाज मुनि, सप्तर्षि तारामण्डल में से एक, बुद्धदेव, कृपाचार्य, न्यायशास्त्र के प्रवर्तक ऋषि ।

गौतमी-(सं.स्त्री.) गौतम ऋषि की पत्नी, अहल्या, गोदावरी नदी, दुर्गा, गोरोधन ।

गौडुमा-(हि. वि.) गाय की पूँछ के आकार का, गावदुम ।

गौधूम-(सं. वि.) गेहूँ का बना हुआ (पकवान, रोटी इत्यादि) ।

गौन-(हि. पुं.) देखें 'गमन', गौना ।

गौनई-(हि. स्त्री.) गायन, गीत ।

गौनहाई-(हि. वि.) जिसका गौना हाल में हुआ हो ।

गौनहार-(हि. स्त्री.) दुलहिन के साथ उसके समुराल जानेवाली स्त्री ।

गौनहारिन, गौनहारी-(हि. स्त्री.) वह स्त्री जिसका गाने का व्यवसाय हो ।

गौना-(हि. पुं.) द्विराममन, विवाह के बाद की एक प्रथा जिसमें वर समुराल जाता है और वहाँ कुछ रस्म पूरी करके वधू को अपने साथ घर लाता है ।

गौपायन-(सं. पुं.) गोप की सन्तान ।

गौमुख-(हि. पुं.) देखें 'गोमुख' ।

गौमुखी-(हि. स्त्री.) देखें 'गोमुखी' ।

गौर-(सं. वि.) सफेद रंग का, गोरा, उज्ज्वल, स्वच्छ, निर्मल; (पुं.) चन्द्रमा, सफेद सरसों, पीला रंग, धव का पौधा, सोना, केसर; (हि. पुं.) विवाह-मंडप में गोबर का बना हुआ शिवालिंग ।

गौरता-(सं. स्त्री.) गोराई, गोरापन ।

गौरव-(सं.पुं.) महत्त्व, बड़प्पन, भारीपन, सम्मान, आदर, उत्कर्ष, अमृत्युत्थान; (वि.) गुस्संबंधी; -शाली-(वि.) गौरवयुक्त ।

गौरवान्वित-(सं. वि.) गौरव से युक्त ।

गौरवित-(सं. वि.) पूज्य, आदरणीय ।

गौरांग-(सं. पुं.) विष्णु, श्रीकृष्ण, शची के पुत्र, चैतन्य महाप्रभु; (वि.) गोरे शरीरवाला ।

गौरांगी-(सं. स्त्री.) छोटी इलायची ।

गौरा-(सं. स्त्री.) गोरे रंग की स्त्री, पावती, हरिद्रा, हल्दी, एक रागिनी का नाम; (पुं.) नर गौरैया पक्षी ।

गौरिया-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का जल-पक्षी, मिट्टी का बना हुआ छोटा हुक्का, एक प्रकार का मोटा वस्त्र ।

गौरी-(सं. स्त्री.) गौरी स्त्री, पावती, आठ वर्ष की कन्या, हल्दी, पृथ्वी, एक नदी का नाम, गोरोचन, दाहहल्दी, तुलसी, सफेद रंग की गाय, गंगा

नदी, सफेद दूब, युद्ध की एक शक्ति का नाम, चमेली, एक रागिनी का नाम।
गौरीकांत-(सं. पुं.) महादेव, शिव।
गौरीचंदन-(सं. पुं.) लाल चन्दन।
गौरीशंकर-(सं. पुं.) शिव, महादेव, हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटी।
गौरीश-(सं. पुं.) महादेव, शंकर।
गौर्या-(हि. स्त्री.) देखें 'गौरिया', चटक।
गौलिमक-(सं. पुं.) चौकसी रखने या पहरा देनेवाला सिपाही।
गोल्प-(सं. पुं.) मीठापन, एक तरह की मदिरा।

गोहर-(फा. पुं.) मोती।
ग्यान-(हि. पुं.) देखें 'ज्ञान'।
ग्यारस-(हि. स्त्री.) एकादशी तिथि।
ग्यारह-(हि. वि.) दस और एक; (पुं.) दस और एक की संख्या, ११।
ग्रंय-(सं. पुं.) गाँठ देना, शास्त्र, पुस्तक, अनुष्टुप् छन्द, श्लोक, धन, सम्पत्ति, मिक्खों का धर्मशास्त्र।

ग्रंयकरण-(सं. पुं.) ग्रन्थ की रचना।
ग्रंयकर्ता-(सं. पुं.) ग्रन्थ बनानेवाला।
ग्रंयकार-(सं. पुं.) पुस्तक लिखनेवाला।
ग्रंयचुंबक-(सं. पुं.) जिसने बहुत-सी पुस्तकों पढ़ी हों परन्तु जो पूर्ण विद्वान् न हों।
ग्रंयचुंबन-(सं. पुं.) पुस्तक का सामान्य रूप से किया गया अध्ययन।

ग्रंबन-(सं. पुं.) गुम्फन, गाँठ, गुंथना।
ग्रंयना-(हि. क्रि. स.) नाथना, गुंथना।
ग्रंयसंधि-(सं. स्त्री.) ग्रन्थ का विभाग, सर्ग, परिच्छेद, अध्याय, श्रंग, काण्ड, पद्य, प्रकरण।

ग्रंय-साहब-(हि. पुं.) सिक्खों का धर्म-ग्रन्थ जिसमें समस्त गुरुओं के उपदेश लिखे हैं।
ग्रंयालय-(सं. पुं.) पुस्तकालय।
ग्रंयावलि(ली)-(सं. स्त्री.) ग्रंथों का समूह, किसी ग्रंथकार की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह।

ग्रंयि-(सं. स्त्री.) गाँठ, बन्धन, कुटिलता, छल, मायाजाल, एक प्रकार का रोग जिसमें शरीर पर मूजन हो जाती है और गाँठ की तरह के फोड़े निकल आते हैं।

ग्रंयिटेदक-(सं. पुं.) गाँठ काटनेवाला, गिरहकट।

ग्रंयित-(सं. वि.) गुंथा हुआ, जोड़ा हुआ, गाँठ दिया हुआ।

ग्रंयित्व-(सं. पुं.) गुंथने की प्रिया।

ग्रंयिपण-(सं. पुं.) गट्टियन नामक बीधा।
ग्रंयिकल-(सं. पुं.) कपित्थ, शंथ का पद।

ग्रंयिवंधन-(सं. पुं.) विवाह के समय वर और कन्या के वस्त्रों के किनारों को परस्पर बाँधने की क्रिया, गँठबंधन।

ग्रंयिमत्-(सं. वि.) ग्रन्थि-युक्त, गाँठदार।

ग्रंयिल-(सं. वि.) गाँठदार, गँठीला।

ग्रंयिला-(सं. स्त्री.) गाडर दूब।

ग्रंस-(हि. पुं.) छल, छिद्र, ग्रन्थि।

ग्रयन-(सं. पुं.) गुंथना, ग्रंथन।

ग्रयित-(सं. वि.) गुंथा हुआ, ग्रंथित।

ग्रसन-(सं. पुं.) भक्षण, निगलना, पकड़, ग्रास, कौर, राहु द्वारा सूर्य या चन्द्रमा का ग्रास।

ग्रसना-(हि. क्रि. स.) कष्ट देना, पकड़ना।

ग्रसमान-(सं. वि.) ग्रास करनेवाला।

ग्रसित-(सं. वि.) देखें 'ग्रस्त'।

ग्रस्त-(सं. वि.) भक्षित, पीड़ित, पकड़ा हुआ, खाया हुआ।

ग्रस्तास्त-(सं. पुं.) ग्रहण लगने पर सूर्य या चन्द्रमा का बिना मोक्ष हुए अस्त होना।

ग्रस्तोदय-(सं. पुं.) चन्द्रमा या सूर्य का ग्रहण लगे हुए उदय होना।

ग्रस्य-(सं. वि.) ग्रसन के योग्य।

ग्रह-(सं. पुं.) सूर्यादि ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करनेवाला तारा, बालकों के अनिष्टकारक स्कन्द आदि रोग, ग्रहण, राहु, सूर्य या चन्द्रग्रहण, रुकावट, नव की सख्या; (वि.) अधिक कष्ट देनेवाला; (मुहा.) अच्छे ग्रह होना-शुभ ग्रह होना; बुरे ग्रह होना-कष्ट देनेवाले प्रतिकूल ग्रहों का होना।

ग्रहकक्षा-(सं. स्त्री.) वह वृत्ताकार पथ जिस पर ग्रह भ्रमण करता है।

ग्रहचिंतक-(सं. पुं.) दैवज्ञ, ज्योतिषी।

ग्रहण-(सं. पुं.) स्वीकार, मंजूरी, ज्ञान, समझ, आदर, पृथ्वी की छाया (पुराणानुसार राहु) द्वारा सूर्य या चन्द्र का आच्छादन।

ग्रहणी-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का रोग जिसमें खाया हुआ अन्न नहीं पचता, और ज्यों का त्यों निकल जाता है, अतिसार।

ग्रहणीय-(सं. वि.) ग्रहण करने योग्य।

ग्रहदशा-(सं. स्त्री.) ग्रहों की स्थिति के अनुसार किसी मनुष्य की भली या बुरी अवस्था, अभाग्य।

ग्रहदोष-(सं. पुं.) ग्रह विशेष का रखना।

ग्रहनायक-(सं. पुं.) सूर्य, गनैश्चर, मन्दार का वृक्ष।

ग्रहपति-(सं. पुं.) सूर्य, यनि, ग्रह का स्वामी, चन्द्र।

ग्रहवेध-(सं. पुं.) ग्रह की स्थिति का जान।

ग्रहाघात-(सं. पुं.) सूर्य।

ग्रहीत-(सं. वि.) गृहीत।
ग्रहीतव्य-(सं. वि.) ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य।
ग्राम-(सं. पुं.) गाँव, छोटी बस्ती, ढेर, समूह, संगीत में सातों स्वरों का समूह, सप्तक।

ग्रामज-(सं. वि.) गाँव में उत्पन्न।

ग्रामणी-(सं. पुं.) प्रधान, अगुआ, गाँव का मुखिया।

ग्राम-देवता-(सं. पुं.) गाँव में किसी की स्थापित की हुई देवमूर्ति, गाँव की रक्षा करनेवाला देवता।

ग्राम-पंचायत-(हि. स्त्री.) गाँव के छोटे-मोटे झगड़े निपटाने के लिए बनी पंचायत।

ग्रामवासी-(सं. पुं.) गाँव का रहनेवाला, देहाती।

ग्रामस्थ-(सं. वि.) ग्रामवासी, देहाती।

ग्रामिक-(सं. वि.) ग्रामसंबंधी, गाँव का।

ग्रामीण-(सं. वि.) देहाती, गँवार।

ग्राम्य-(सं. वि.) ग्राम संबंधी, प्राकृत, मूढ़; मैथुन, संबंधी; (पुं.) अश्लील शब्द या वाक्य, काव्य का दोष जिसमें गँवारु विषयों का वर्णन हो; -ता-(स्त्री.) असभ्यता, गँवारपन; -धर्म-(पुं.) मैथुन, स्त्री-प्रसङ्ग।

ग्राव-(सं. पुं.) पत्थर, ओला, बनौरी, मेघ, बादल।

ग्रास-(सं. पुं.) कौर, निवाला, पकड़, सूर्य या चन्द्र का ग्रहण लगना।

ग्रासक-(सं. वि.) पकड़नेवाला, निगलने या छिपानेवाला।

ग्रासना-(हि. क्रि. स.) पकड़ना, धरना, निगलना, कष्ट देना, सताना।

ग्रासित-(सं. वि.) देखें 'ग्रस्त'।

ग्राह-(सं. पुं.) ग्रहण, पकड़, मगर, घड़ियाल, ज्ञान, आग्रह, हठ, स्वीकार।

ग्राहक-(सं. वि., पुं.) ग्रहण करनेवाला, मील लेनेवाला, ग्राहक, खरीदार, ज्ञापक, चाहनेवाला, मल बाँधने की औषध।

ग्राही-(सं. पुं.) ग्राहक; (वि.) मल रोकनेवाला, स्वीकार करनेवाला।

ग्राह्य-(सं. वि.) स्वीकार करने योग्य, मानने योग्य।

ग्रीवा-(सं. स्त्री.) कन्या, गरदन, गला।

ग्रीवी-(सं. वि.) लंबी सुन्दर गरदन वाला।

ग्रीपम-(हि. पुं.) देखें 'ग्रीष्म'।

ग्रीष्म-(सं. पुं.) गरमीकी ऋतु; (वि.) गरम, उष्ण; -कालीन-(वि.); ग्रीष्म ऋतु का।

ग्रेन-(अं. पुं.) एक अंगरेजी तील।

ग्रेही-(हि. वि.) संसारी।
ग्रैव-(सं. वि.) ग्रीवा (गरदन) संबंधी;

(पुं.) गले में पहिने का एक आभूषण ।
ग्रैवेयक-(सं. पुं.) गले का अलंकार,
 हार, माला, हंसुली ।
ग्रौम-(सं. वि.) ग्रीष्म संबंधी, गरमी के
 ऋतु का ।
ग्लपन-(सं. पुं.) ग्लानि, निन्दा, क्लान्ति,
 शिथिलता ।
ग्लपित-(सं. वि.) लज्जित, क्लान्त ।
ग्लहन-(सं. पुं.) घृतकीड़ा, जुए का खेल ।
ग्लान-(सं. वि.) रोगी, थका हुआ ।
ग्लानि-(सं. स्त्री.) दुर्बलता, अनुत्साह,
 खिन्नता, अरुचि, शिथिलता, अपने
 कार्य में अयोग्यता या बुराई देखकर
 अनुत्साह होना ।
ग्वार-(हि. स्त्री.) एक पौधा जिसके फल
 की तरकारी और बीज की दाल होती
 है, कुलथी, देखें 'ग्वाल' ।
ग्वारपाठा-(हि. पुं.) घृतकुमारी, धीकुआर ।
ग्वारिन-(हि. स्त्री.) गोप की स्त्री, ग्वालिन ।
ग्वाल-(हि. पुं.) गोप, ग्वाल, अहीर ।
ग्वालककड़ी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का
 जंगली चिचड़ा ।
ग्वालिन-(हि. स्त्री.) ग्वाला की स्त्री,
 अहीरिन, एक प्रकार का वरसाती कीड़ा,
 गिजाई, तरकारी विशेष ।
ग्वंठना-(हि. क्रि.स.) ऐंठना, मरोड़ना ।
ग्वंड, ग्वंडा-(हि. पुं.) गाँव के समीप की
 भूमि, गोईड़ ।
ग्वंडे-(हि. अव्य.) निकट, पास, समीप ।

घ

घ हिन्दी वर्णमाला के व्यंजनों में से
 कवर्ग का चतुर्थ वर्ण, इसका
 उच्चारण-स्थान कण्ठ है; (सं.पुं.) घण्टा,
 घड़ी, घर्षण शब्द, वर्ष, साल ।
घँघरा-(हि. पुं.) घघरा ।
घँघरी-(हि. स्त्री.) देखें 'घघरी' ।
घँघोरना, घँघोलना-(हि. क्रि.स.) हिला-
 कर घोलना, जल को हिलाकर उसमें
 कुछ मिला देना, जल को हिलाकर गन्दा
 करना ।
घंट-(हि. पुं.) घड़ा, घंटा, मृतक-क्रिया के
 संबंध में जो घड़ा पीपल के वृक्ष पर बाँधा
 जाता है ।
घंटा-(हि.पुं.) साठ मिनट या अढ़ाई घड़ी
 का समय, वड़ी घंटी, ठेंगा, कुछ नहीं ।
घंटाकरन-(हि. पुं.) एक तरह की घास ।
घंटाघर-(हि.पुं.) वह ऊँचा महल जिस पर
 चारों ओर से दिखाई पड़नेवाली विद्यु-

च्चालित घड़ी लगी हो और जिसका घंटा
 दूर तक सुनाई पड़ता हो ।
घंटिका-(सं.स्त्री.) बहुत छोटी घंटी, घुंघरू ।
घंटी-(हि. स्त्री.) छोटा घंटा, धातु की
 छोटी लोटिया, घुंघरू, घंटी बजने का
 शब्द, जीम की जड़ के पास लटकती हुई
 मांस की छोटी ग्रन्थि, कौआ ।
घई-(हि. स्त्री.) पानी में का भँवर या
 चक्कर; (वि.) बहुत गहरा, अथाह,
 देखें 'गंभीर' ।
घकार-(सं. पुं.) "घ" अक्षर ।
घघरबेल-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की
 लता, बंदाल ।
घघरा-(हि. पुं.) स्त्रियों का लहंगा ।
घघरी-(हि. स्त्री.) छोटा घघराया लहंगा ।
घघ्राघघ-(हि. पुं.) नरम पदार्थ में
 नुकीली वस्तु के चुभने का शब्द ।
घट-(सं. पुं.) मिट्टी का पात्र, घड़ा,
 जलपात्र, कलसा, कुम्भराशि, पिण्ड, शरीर,
 मन, हृदय; (वि.) न्यून, कम, घटा हुआ ।
घटक-(सं. पुं.) मध्यस्थ, विचवई,
 विवाह-संबंध निश्चित करानेवाला,
 चतुर मनुष्य, दलाल, संयोजक, घड़ा,
 वंश-परंपरा को बतलानेवाला ।
घटकर्ण-(सं. पुं.) कुम्भकण ।
घटकना-(हि. क्रि.स.) देखें 'गटकना' ।
घटका-(हि. पुं.) मृत्युकाल की वह
 स्थिति जब साँस लेने में धरधर शब्द
 होता है, गले में कफ रुकने की अवस्था ।
घटकार-(सं. पुं.) कुम्भकार, कोंहार ।
घटज-(सं. पुं.) अगस्त्य मुनि ।
घटती-(हि. स्त्री.) न्यूनता, कमी, कसर ।
घटदासी-(सं.स्त्री.) कुटनी, रंडी की दासी ।
घटन-(सं. पुं.) योजना, सम्मेलन,
 गढ़ा जाना, उपस्थित होना ।
घटना-(हि. क्रि.अ.) उपस्थित होना, ठीक
 से बैठना, मेल में होना, मेल में मिल
 जाना, ठीक उतरना, कम होना, क्षीण
 होना, पर्याप्त न होना; -बढ़ना-(क्रि.अ.)
 कम-बेशी होना; (स्त्री.) अकस्मात्
 किसी बात का होना, दैवगति, व्यापार ।
घटनीय-(सं. वि.) घटित होने योग्य ।
घटवढ़-(हि. स्त्री.) न्यूनाधिकता ।
घटभव, घटयोनि-(सं.पुं.) अगस्त्य मुनि ।
घटवाना-(हि. क्रि.स.) कम कराना, घटाने
 का काम कराना ।
घटवाई-(हि. पुं.) घाट का कर लेने-
 वाला; (स्त्री.) कम करवाई ।
घटवार-(हि. पुं.) घाट का कर लेने-
 वाला, मल्लाह, मांझी, घाट पर बैठकर

दान लेनेवाला ब्राह्मण ।
घटसंभव-(सं.पुं.) कुम्भसंभव, अगस्त्य मुनि ।
घटस्थापन-(सं.पुं.) मन्त्र पढ़कर घट की
 स्थापना, मन्त्र पढ़कर जल से घड़ा भर-
 कर रखना ।
घटहा-(हि. पुं.) घाट का ठेकेदार, घाट
 पर चलनेवाला नाव ।
घटा-(सं. स्त्री.) समूह, झुण्ड, ढेर,
 घटना, गोष्ठी, धूमधाम, समारोह,
 उमड़ते हुए मेथों का समूह; (मुहा.)
 -उठना-काले मेथों का आकाश में छा
 जाना; -घिरना या छाना-मेघमाला
 का आकाश को ढक लेना ।
घटाई-(हि. स्त्री.) दीनता, अप्रतिष्ठा ।
घटाकाश-(सं. पुं.) घड़े के भीतर का
 खाली स्थान ।
घटाटोप-(सं. पुं.) आडंबर, पाखण्ड, तड़क-
 मड़क, गाड़ी या पालकी का ओहार,
 चारों ओर घिरी हुई वादलों की घटा ।
घटाना-(हि. क्रि.स.) न्यून करना, कम
 करना, काटना, बाकी निकालना,
 अप्रतिष्ठा करना ।
घटाव-(हि.पुं.) न्यूनता, कमी, अवनति ।
घटावना-(हि. क्रि.स.) देखें 'घटाना' ।
घटिका-(सं. स्त्री.) एक दण्ड या चौबीस
 मिनट का समय, छोटा घड़ा, गगरी,
 घटीयंत्र, घड़ी ।
घटिकायंत्र-(सं.पुं.) समय बतलाने का यन्त्र ।
घटित-(सं.वि.) रचित, निमित्त, बनाया हुआ ।
घटितव्य-(सं. वि.) जिसके होने की
 संभावना हो ।
घटिया-(हि. वि.) कम मूल्य का, सस्ता,
 तुच्छ, नीच, अवम ।
घटिहा-(हि. वि.) दाँव पाकर अपना
 स्वार्थ साधनेवाला, व्यभिचारी, लम्पट,
 दुष्ट, नीच, छली ।
घटी-(सं. स्त्री.) घड़ी, चौबीस मिनट का
 काल, मुहूर्त, समयसूचक यन्त्र, छोटा
 घड़ा, गगरी; (हि. स्त्री.) न्यूनता,
 कमी, घाटा, हानि ।
घटोत्कच-(सं. पुं.) हिडिम्बा के गर्भ से
 उत्पन्न भीमसेन का पुत्र ।
घटोद्भव-(सं. पुं.) अगस्त्य मुनि ।
घटोर-(हि. पुं.) मेड़ा, मेड़ा ।
घट्ट-(सं. पुं.) घाट, घाट का कर लेने
 का स्थान ।
घट्टित-(सं. वि.) निमित्त, बनाया हुआ ।
घट्टा-(हि. पुं.) शरीर पर का उमड़ा
 हुआ चिह्न जो रगड़ लगने से पड़ जाता
 है; (क्रि.प्र.) -पड़ना-आदत पड़ना,

कष्ट आदि महने का अभ्यास होना, घट्टे का चिह्न पड़ना।
 घट्टघट्ट-(हि. पुं.) बादल गरजने या गार्गी के चलने का शब्द, घड़घड़हट्ट, बादल की गरज।
 घट्टघड़ाना-(हि. क्रि. अ.) घड़घड़ शब्द होना।
 घड़घड़ाहट्ट-(हि. स्त्री.) घड़घड़ शब्द होना, मेघों की गरजना।
 घड़ना-(हि. क्रि. न.) देखें 'गड़ना'।
 घड़नेल-(हि. पुं.) बांस में घड़े बांधकर बनाया हुआ ढाँचा जिस पर चढ़कर छोटी नदी पार करते हैं।
 घड़ा-(हि. पुं.) मिट्टी का गगरा, गगरी, कुत्सा, जलपात्र; (मुहा.) घड़ों पानी पड़ जाना-लज्जा के मारे सिर झुक जाना।
 घड़ाई-(हि. स्त्री.) देखें 'गड़ाई'।
 घड़िया-(हि. स्त्री.) मोना-चाँदी गलाने का सोनार का पात्र, मिट्टी का छोटा पात्र, मयूका छत्ता, बच्चादानी, गर्भाशय।
 घड़ियाल-(हि. पुं.) पूजा के समय बजाया जानेवाला घण्टा, एक हिंसक जलजंतु, प्राह।
 घड़ियाली-(हि. पुं.) घण्टा बजानेवाला मनुष्य।
 घड़ी-(हि. स्त्री.) समय बतलानेवाला यन्त्र, समय, काल, अवसर, चौबीस मिनट का समय; (मुहा.) घड़ियाँ गिनना-घबराहट्ट के कारण किसी घटना का आसरा देखना; -टलना-साइत या समय बीत जाना; -में घड़ियाल-क्षणभर में जाने क्या हो जाय; -साइत का मेहमान- जो मर रहा हो, आसन्न-मृत्यु; -घड़ी-(अव्य.) बारम्बार, थोड़ी-थोड़ी देर पर; -दिआ-(पुं.) वह घड़ा जो किसी मनुष्य के मरने पर घर में रक्ता जाता है; -साज-(पुं.) घड़ियों को मरम्मत करनेवाला; -साजी-(स्त्री.) घड़ी मरम्मत करने का काम।
 घड़ोला-(हि. पुं.) छोटा घड़ा, अंजर।
 घड़ोची-(हि. स्त्री.) नरा हुआ जल का घड़ा रखने की निपाई।
 घटिया-(हि. वि.) बोका देनेवाला।
 घटियाना-(हि. क्रि. न.) अपने दाँव या घात में खाना, चुराना, छिपाना।
 घन-(सं. पुं.) मेघ, नमूह, विस्तार, गरीब, सुगु, अन्नक, लोहार का गरम गोला पीटने का बड़ा हथौड़ा, मनुष्य, कामे का बाजा, घड़ियाल, घंटा, लोहा, विभीषण को उसी अंक में गुणा करने

से लंबव पिण्ड, ताल देने का बाजा, लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई का गुणन-फल; (वि.) ठोस, बना, गश्तिन, दृढ़, गठा हुआ, अमेघ।
 घनक-(हि. स्त्री.) गड़गाड़ाहट्ट।
 घनकना-(हि. क्रि. अ.) गरजना, घन-घन शब्द करना।
 घनकारा-(हि. वि.) गरजनेवाला।
 घनकाल-(सं. पुं.) वर्षा ऋतु।
 घनकोदंड-(सं. पुं.) इन्द्रधनुष।
 घनक्षेत्र-(सं. पुं.) लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई का गुणन-फल या घन-फल।
 घनगरज-(हि. स्त्री.) बादल के गरजने का शब्द, एक प्रकार की तोप।
 घनघनाना-(हि. क्रि. अ.) घंटे के समान शब्द करना या होना।
 घनघनाहट्ट-(हि. स्त्री.) घन घन का शब्द।
 घनघोर-(हि. पुं.) घनघनाहट्ट, भीषण ध्वनि, बादल की गरज; (वि.) बहुत घना, भयंकर; -घटा-(स्त्री.) काली घटा।
 घनचक्र-(हि. पुं.) चंचल बुद्धि का मनुष्य, मूढ़, मूर्ख, व्यर्थ धूमनेवाला मनुष्य, सूर्यमुखी का फूल, एक प्रकार की अग्निक्वीड़ा, चक्रकर, जंजाल।
 घगजवाला-(सं. स्त्री.) विजली की चमक।
 घनताल-(हि. पुं.) झाँज।
 घनतिमिर-(सं. पुं.) गहरा अन्धकार।
 घनत्व-(सं. पुं.) घनापन, ठोसपन, सघनता, लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई-तीनों का गुणन-फल।
 घननाद-(सं. पुं.) गरज, रावण का पुत्र, मेघनाद।
 घनपति-(सं. पुं.) मेघों के अधिपति इन्द्र।
 घनप्रिय-(सं. पुं.) मयूर, मोर।
 घनफल-(सं. पुं.) लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, (गहराई या ऊँचाई)-तीनों का गुणन-फल, वह गुणनफल जो किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करने से प्राप्त हो।
 घनवान-(हि. पुं.) एक प्रकार का बाण जिमके चलने से बादल छा जाते हैं।
 घनवेल-(हि. वि.) जिस पर वेलबूटे बने हों।
 घनमूल-(सं. पुं.) गणित में घन राशि का मूल अङ्क-यथा ६४ का घनमूल ४ है।
 घनरस-(सं. पुं.) जल, पानी, कपूर।
 घनवाही-(हि. स्त्री.) घन से तपे हुए लोहे को पीटने का काम, घन चलाने-वाले के लड़े होने का गड़वा।
 घनश्याम-(सं. पुं.) श्रीकृष्ण, काला दादल; (वि.) मेघ के समान काला।

घनसार-(हि. पुं.) घनरस।
 घनस्वन-(सं. पुं.) मेघ-गर्जन।
 घना-(हि. वि.) सघन, गश्तिन, गुंजान, निकट का, गाढ़ा, अधिक।
 घनाक्षरी-(सं. स्त्री.) दण्डक या मनोहर छन्द, कवित्त।
 घनाघन-(हि. पुं.) बरसनेवाला बादल, इन्द्र।
 घनात्मक-(सं. वि.) जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, (ऊँचाई या गहराई) समान हों।
 घनानंद-(सं. पुं.) गद्य काव्य का एक भेद।
 घनाली-(हि. स्त्री.) मेघमाला।
 घनिष्ठ-(सं. वि.) घना, गाढ़ा, निकट या समीप का, अंतरंग।
 घनिष्ठता-(सं. स्त्री.) घनिष्ठ होने का भाव या दशा, गहरी मित्रता।
 घनीभाव, घनीभवन-(सं. पुं.) घन होने का भाव या अवस्था, जमना, ठोस रूप धारण करना।
 घनीभूत-(सं. वि.) घन या ठोस बना हुआ।
 घने-(हि. वि.) अनेक, बहुत।
 घनेरा-(हि. वि.) अत्यधिक, अतिशय, बहुत।
 घनेरे-(हि. वि.) अगणित, अत्यन्त, बहुत।
 घनोपल-(सं. पुं.) ओला, वनोरी।
 घपचिआना-(हि. क्रि. अ.) व्यग्र होना, घबड़ाना।
 घपची-(हि. स्त्री.) दोनों हाथों से कसकर पकड़ना।
 घपला-(हि. पुं.) गड़बड़, गोलमाल।
 घपुआ-(हि. वि.) मूर्ख, लंठ।
 घप्पू-(हि. वि.) मूर्ख, उल्लू।
 घबड़ाना, घबराना-(हि. क्रि. अ.) व्यग्र होना, व्याकुल होना, उद्विग्न होना, चंचल होना, भय से त्रस्त होना, भी-चक्का होना, जी उचटना, आतुर होना, जल्दी मचाना, जी न लगना, अधीर होना; (क्रि. स.) व्यग्र करना।
 घबराहट्ट-(हि. स्त्री.) व्याकुलता, उतावलापन, अशान्ति, उद्विग्नता।
 घमका-(हि. पुं.) घुंसा, मुक्का।
 घमंड-(हि. पुं.) गर्व, अहंकार, अभिमान, नरोत्ता, सहारा, वीरता।
 घमंडी-(हि. वि.) अहंकारी, अभिमानी, शेखीवाज।
 घम-(हि. पुं.) कोमल वस्तु पर कड़ा आघात पड़ने का शब्द।
 घमकना-(हि. क्रि. अ., स.) गंभीर शब्द होना या करना, घुंसा मारना, गरजना, धमकना।
 घमका-(हि. पुं.) गदा या घुंसे का शब्द, आघात का शब्द, ऊमस।

घमघमाना—(हि.क्रि.अ.,स.) घमघम शब्द करना, घुंसा मारना; प्रहार करना।
 घमड़ना—(हि. क्रि. अ.) घुमड़ना।
 घमर—(हि. पुं.) नगाड़े, ढोल इत्यादि की गंभीर ध्वनि।
 घमरौल—(हि.स्त्री.) ऊँचम, गड़वड़, उपद्रव।
 घमत्त, घमसा—(हि.पुं.) ऊँचम, वृष की गरमी।
 घमसान—(हि. पुं.) देखें 'घमासान'।
 घमाका—(हि. पुं.) बहुत जोर का शब्द (मकान आदि गिरने का)।
 घमाना—(हि.क्रि.अ.,स.) घाम लेना, घूप में बैठना या डालना।
 घमाघम—(हि. अव्य.) घमाका सहित।
 घमाघमी—(हि. स्त्री.) देखें 'घमाघम'।
 घमायल—(हि.वि.) घूप में पका हुआ (फल)।
 घमासान—(हि. पुं.) गहरी लड़ाई, भयंकर युद्ध; (वि.) प्रचण्ड, भयंकर।
 घमाह—(हि. पुं.) घूप या घाम खाया हुआ।
 घमोई—(हि. स्त्री.) वाँस का एक रोग जिसके लगने से इसमें नये अंकुर नहीं निकलते।
 घमोय—(हि. पुं.) एक कटीले पत्तों का पौधा, भड़माई, सत्यानाशी।
 घमोरी—(हि. स्त्री.) देखें 'अम्होरी'।
 घर—(हि. पुं.) गृह, मनुष्यों के रहने का स्थान, स्वदेश, जन्मभूमि, वंश, घराना, कार्यालय, छिद्र, छेद, गृहस्थी, कमरा, उत्पत्ति-स्थान; (मुहा.) अपना घर समझना—मन में संकोच न लाना; —आबाद होना—घर बसना; —उजड़ना—परिवार का नाश होना; —उठना या उठाना—मकान बनना या बनाना; —करना—बसना, स्थान बना लेना, गड़वा करना; —का—निजी, अपना, आपस का; (अच्छे) घर का—मले या अच्छे कुल का; —का आदमी—कुटुम्बी; —का उजाला—कुल का यश बढ़ानेवाला; (अंधरे)—का उजाला—अति सुंदर; —का घर—सम्पूर्ण परिवार; —का न घाट का—जिसके रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं हो; —की खेती—अपनी ही वस्तु; —के घर—गुप्त रूप से; —घलना—परिवार की दुर्दशा होना; —घालना—कुल की मर्यादा नष्ट करना; —जमाना—गृहस्थी की सामग्रियाँ इकट्ठा करना; —पीछे—प्रत्येक घर में; —फूँक तमाशा देखना—स्वयं घर की सम्पत्ति नाश करना; —फोड़ना—परिवार में कलह उत्पन्न करना; —वनाना—घर को समृद्ध करना; —बसना—घर का आबाद होना;

—बसाना—विवाह करना; —बैठे—विना कुछ काम किये; —बैठना—एकांतवासी होना; नौकरी या रोजी छोड़कर घर बैठना; (किसी के) —बैठना—किसी की पत्नी या रखेली बनना; —भर—सारा परिवार; —भरना—घर का बाल-बच्चों, धन-धान्य से पूर्ण होना; —भाँय भाँय करना—घर का सूना-सूना लगना; —हँ—पत्नी, स्त्री; —से—अपने पास से; —सेना—सदा घर में पड़े रहना; —से पाँव निकालना—स्त्री का दुश्चरित्र होना।
 घरऊ—(हि. वि.) घर का, अपना।
 घरगयी—(हि. वि. स्त्री.) जिसका घर बरबाद हो गया हो, निगोड़ी।
 घर-गिरस्ती—(हि.स्त्री.) देखें 'घर-गृहस्थी'।
 घरघराना—(हि.क्रि.अ.) घरघर शब्द करना।
 घर-घराना—(हि.पुं.) परिवार, कुटुम्ब, वंश।
 घरघराहट—(हि. स्त्री.) घरघर शब्द।
 घर-घाट—(हि. पुं.) तौर-तरीका, रहन-सहन, कुल-मर्यादा आदि।
 घरघाल, घरघालन—(हि. वि.) परिवार का नाश करनेवाला।
 घर-घुसड़ा, घरघुसना—(हि.पुं.) वह व्यक्ति जो सदा घर के भीतर घुसा रहे।
 घर-जवाई—(हि. पुं.) वह दमाद जो अपनी ससुराल में ही रहे।
 घरजाया—(हि. पुं.) घर का दास।
 घर-जगत—(हि. पुं.) घर-गृहस्थी का चतुर प्रबंध।
 घर-झंकी—(हि. स्त्री.) वह स्त्री जो दूसरों के घर घूमा करती हो।
 घरदासी—(हि.स्त्री.) गृहिणी, भार्या, पत्नी।
 घरद्वार—(हि. पुं.) रहने का स्थान, ठौर-ठिकाना, गृहस्थी, सम्पत्ति।
 घरनाल—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की प्राचीन समय की तोप।
 घरनी—(हि. स्त्री.) घरवाली, गृहिणी, पत्नी, भार्या।
 घरपत्ती—(हि. स्त्री.) प्रत्येक घर से लेने का चन्दा, ब्रेहरी, अंशदान।
 घरफोड़ना, घरफोरा—(हि.वि.) परिवार में कलह उत्पन्न करनेवाला।
 घरफोड़नी, घरफोरी—(हि. वि. स्त्री.) घर घर में झगड़ा लगानेवाली।
 घरबसा—(हि.पुं.) उपपति, जार, यार, पति।
 घरदार—(हि. पुं.) रहने का स्थान, ठौर-ठिकाना, गृहस्थी, किसी की निजी सम्पत्ति।
 घरद्वारी—(हि. पुं.) गृहस्थ, कुटुम्बी, बाल-बच्चोंवाला।
 घर-वारू—(हि. पुं.) देखें 'घरवारी'।

घरवाला—(हि. पुं, स्त्री. घरवाली) घर का मालिक, स्वामी, पति।
 घरसा—(हि. पुं.) रगड़, घस्ता।
 घरहोई—(हि. स्त्री.) परिवार में कलह उत्पन्न करनेवाली स्त्री, निन्दा या अपमान फैलानेवाली।
 घरारू—(हि.वि.) घर का, गृह-संबंधी, आपस का, निजी।
 घराली—(हि. पुं.) विवाह में कन्या के पक्ष के मनुष्य।
 घराना—(हि. पुं.) वंश, कुल।
 घरिया—(हि. स्त्री.) देखें 'घड़िया'।
 घरियाना—(हि. क्रि. स.) कपड़े को तह करके लपेटना।
 घरियार—(हि. पुं.) देखें 'घड़ियाल'।
 घरियारी—(हि. पुं.) घंटा बजानेवाला।
 घरी—(हि. स्त्री.) घड़ी, तह, परत।
 घरीक—(हि.अव्य.) घड़ी भर, थोड़ी देर तक।
 घरुआ—(हि.पुं.) गृहस्थी का उचित प्रबंध।
 घरू—(हि. वि.) गृहस्थी-संबंधी, घर का।
 घरेलू—(हि.वि.) घर में रहनेवाला, पलुआ, पालतू, घर का, निज का, घर का बना हुआ, घरू; —उद्योग—(पुं.) सूत कातना, करघा चलाना आदि छोटे-मोटे वंघे।
 घरैया—(हि. वि.) परिवार संबंधी, अति धनिष्ठ।
 घरो—(हि. पुं.) घड़ा, कलश।
 घरौंदा, घरौंसा—(हि. पुं.) छोटे बच्चों के खेलने का कागज, मिट्टी, लकड़ी आदि का बना हुआ छोटा घर, नन्हा-सा घर।
 घरौना—(हि. पुं.) देखें 'घरौंदा'।
 घरवर—(सं. पुं.) घड़घड़ाहट का शब्द।
 घरम—(सं.पुं.) आतप, घूप, घाम; —विदु—(पुं.) पसीना।
 घर्रा—(हि. पुं.) आँख में लगाने का एक प्रकार का अंजन, कफ के कारण गले से घरघराहट का शब्द।
 घर्राटा—(हि. पुं.) गहरी नोंद में साँस लेने का शब्द, खराटा; (मुहा.)—मारना—गहरी नोंद सोना।
 घर्रण—(सं. पुं.) रगड़, घिस्ता।
 घर्रणी—(सं. स्त्री.) हरिद्रा, हलदी।
 घर्रित—(सं. वि.) रगड़ा हुआ, रगड़ खाया हुआ।
 घर्रना—(हि. क्रि. अ.) फेंका जाना, गिर पड़ना, तौर-गोली आदि का छूटना, मारपीट होना।
 घर्राघल, घर्राघली—(हि.स्त्री.) मारपीट।
 घर्रुआ—(हि. पुं.) वह अधिक वस्तु जो ग्राहक को उचित तौल के अतिरिक्त दी

जाय, घाल ।
 घबद-(हि. स्त्री.) देखें 'घाँद' ।
 घबरि-(हि. स्त्री.) फलों का गुच्छ ।
 घसकना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'खिसकना' ।
 घससुदा-(हि. पुं.) घास करनेवाला, मूर्ख ।
 घसना-(हि. क्रि. अ.) रगड़ना, घिसना ।
 घसितना-(हि. क्रि. अ.) घसीटा जाना ।
 घसियारा-(हि. पुं. स्त्री. घसियारिन) घास छीलनेवाला, घास बेचनेवाला ।
 घसीट-(हि. स्त्री.) जल्दी लिखन का काम, जल्दी में लिखा हुआ लेख ।
 घसीटना-(हि. क्रि. स.) जोर लगाकर खींचना, जल्दी से लिखकर काम चालू करना, जबरदस्ती से शामिल करना ।
 घस्ता-(हि. पुं.) घिस्ता, रगड़ ।
 घहनाना-(हि. क्रि. अ.) घण्टे आदि का टनटन करना, घहराना ।
 घहरना-(हि. क्रि. अ.) गम्भीर शब्द करना ।
 घहराना-(हि. क्रि. अ.) गरजना, चिंगघाड़ना ।
 घहरानि-(हि. स्त्री.) गम्भीर शब्द, गरज ।
 घहरारा-(हि. पुं.) गम्भीर शब्द ।
 घहरारी-(हि. स्त्री.) देखें 'घहरारा' ।
 घां-(हि. स्त्री.) दिशा, ओर ।
 घांघरा-(हि. पुं.) घाघरा, लहंगा ।
 घांघरी-(हि. स्त्री.) देखें 'घांघरा' ।
 घांटी-(हि. स्त्री.) गले के भीतर की घंटी, कौआ ।
 घांटी-(हि. पुं.) एक गाना जो चैत्र मास में गाया जाता है ।
 घांहि-(हि. पुं.) ओर ।
 घा-(हि. स्त्री.) ओर ।
 घाह-(हि. पुं. वा स्त्री.) देखें 'घाव' ।
 घाइल-(हि. वि.) आहत ।
 घाई-(हि. स्त्री.) श्रोत्र, सन्धि, द्वार, दफा, पानी में का नंबर ।
 घाई-(हि. स्त्री.) दो अंगुलियों के बीच का कोना प्रहार, चोट, छल, घोखा, आघात; (मुहा.) घाइयाँ बतलाना-डालमटूल करना ।
 घाड-(हि. पुं.) घाव ।
 घाऊघप-(हि. वि.) गुप्त रूप से किसी का घन हरण करनेवाला, चुपके से अपना अर्थ साधनेवाला ।
 घाएँ-(हि. अव्य.) ओर ।
 घाप-(हि. पुं.) अति चतुर मनुष्य, सयाना ।
 घाघरा-(हि. पुं.) स्त्रियों का लहंगा, सरजू नदी; -पलटन-(स्त्री.) गोरों की सेना जिनात कनर के नीचे का पहिनावा घाघरे के आकार का होता है ।
 घाघी-(हि. स्त्री.) मछली पकड़ने का

बड़ा जाल ।
 घाट-(हि. पुं.) नदी आदि का वह स्थान जहाँ लोग नहाने-धोते या नाव पर चढ़ते हैं; पहाड़, नीचा-ऊँचा पहाड़ी मार्ग, दिशा, डीलडौल, रीति, तलवार की धार; (स्त्री.) बुराई, छल, कपट; (वि.) कम, थोड़ा; (मुहा.)-घाट का पानी पीना-धूम-धूमकर अनुभव प्राप्त करना; -घरना-मार्ग रोकना; -नहाना-अन्त्येष्टि क्रिया के १० दिनों तक मृतक के सगे-संबंधियों का स्नान करके तिलांजलि देना; -लगना-ठिकाना पाना; -कप्तान-(पुं.) बन्दरगाह का अध्यक्ष; -बंदी-(स्त्री.) किसी निर्धारित स्थान से नाव या जहाज ले जाने की मनाही; -वाल-(पुं.) घाट पर बैठकर दान लेतेवाला घाटिया, गंगापुत्र ।
 घाटा-(हि. पुं.) हानि, घटी ।
 घाटारोह-(हि. पुं.) घाट से किसी को उतरने न देना, घाटबंदी ।
 घाटि-(हि. वि.) न्यून, कम, घटकर; (स्त्री.) नीच कार्य, पाप ।
 घाटिया-(हि. पुं.) घाटों पर बैठकर दान लेनेवाला ब्राह्मण, गंगापुत्र ।
 घाटी-(हि. स्त्री.) पर्वतों के बीच की भूमि, पहाड़ का ढालुआ स्थान, दर्रा ।
 घात-(हि. पुं.) धक्का, प्रहार, चोट, वध, हत्या, बुराई, गणित में गुणनफल; (स्त्री.) दाँव, ताक, अनुकूल अवस्था, रंगडंग, छल-कपट; (मुहा.)-करना-छलना; -पर चढ़ना,-में आना-अभिप्राय सिद्ध होने के अनुकूल होना, चाल में फँसना, दाँव में आना; -में-ताक में; -में बैठना-छिपकर आक्रमण करने के लिये तयार रहना; -लगना-मुअवसर प्राप्त होना; -लगाना-तरकीब मिड़ाना ।
 घातक-(सं. वि., पुं.) मार डालनेवाला, बाघ, हत्यारा ।
 घातन-(सं. पुं.) वध करना, जान से मारना; (वि.) वध करनेवाला ।
 घातकी-(हि. पुं.) घातक, हत्यारा ।
 घातिनी-(हि. स्त्री.) वध करनेवाली, हत्यारी ।
 घाती-(सं. पुं.) मारनेवाला, घातक, हत्यारा, संहारक, नाश करनेवाला ।
 घातुक-(सं. वि.) हिंसक, क्रूर, हत्यारा ।
 घात्य-(सं. वि.) घात करने योग्य, वध्य ।
 घात-(हि. पुं.) जितनी वस्तु एक बार कोलू या चक्की में डाली जाती है अथवा पकाई जाती है, आघात, चोट, प्रहार, बड़ा हथौड़ा ।
 घाना-(हि. क्रि. स.) मारना, नाश करना,

पकड़ना ।
 घानी-(हि. स्त्री.) देखें 'घान'; समूह, ढेर ।
 घाम-(हि. पुं.) आतप, धूप ।
 घामड़, घामर-(हि. वि.) घाम से व्याकुल, मूर्ख, आलसी ।
 घायक-(हि. वि.) नाश करनेवाला, मारनेवाला ।
 घायल-(हि. वि.) जिसे चोट लगी हो, आहत ।
 घार-(हि. स्त्री.) पानी के बहाव से कटकर बना हुआ मार्ग ।
 घाल, घाला-(हि. पुं.) देखें 'घलुआ' ।
 घालक-(हि. पुं.) नाश करनेवाला, मारनेवाला ।
 घालकता-(हि. स्त्री.) नाश करने का कार्य ।
 घालना-(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु के भीतर या ऊपर रखना, गिराना, डालना, रखना, फकना, छोड़ना, नाश करना, बिगाड़ना, मार डालना ।
 घालमेल-(हि. पुं.) अनेक प्रकार की वस्तुओं की एक साथ मिलावट, मेल-जोल ।
 घालिका-(हि. स्त्री.) नाश करनेवाली स्त्री ।
 घालिनी-(हि. स्त्री.) मार डालनेवाली स्त्री ।
 घाव-(हि. पुं.) शरीर का वह स्थान जहाँ पर चोट लगी हो या कट गया हो, क्षत; (मुहा.)-खाना-चोट लगना; -पर नमक छिड़कना-दुःखके समय और कष्ट देना; -पूजना या भरना-वाव का सुख जाना ।
 घावपत्ता-(हि. पुं.) एक लता जिसके पत्ते घाव पर बाँधे जाते हैं ।
 घावरिया-(हि. पुं.) घावों का चिकित्सक, जर्ह ।
 घास-(सं. स्त्री.) भूमि पर उगनेवाला छोटा तृण, पशुओं का चारा; -पात, -फूस-(पुं.) खर-कतवार, कूड़ा-करकट; (मुहा.)-काटना, छीलना या खोदना-तुच्छ कार्य या सहज कार्य करना; -खाना-पशु के समान हो जाना ।
 घासलेटी-(हि. वि.) रद्दी, निकृष्ट ।
 घासी-(हि. स्त्री.) घास, तृण ।
 घाह-(हि. पुं.) अंगुलियों की सन्धि, देखें 'घाई' ।
 घिअंठा-(हि. पुं.) धी रखने का पात्र ।
 घिघी-(हि. स्त्री.) रोंते-रोते साँस लेने में रुकावट होना, हिचकी, भय के कारण बोलने में रुकावट; (मुहा.)-बैठना-भय के कारण मुँह से बोली न निकलना ।
 घिघियाना-(हि. क्रि. अ.) रो-रोकर प्रार्थना करना, मिड़मिड़ाना, चिल्लाना ।
 घिचपिच-(हि. स्त्री.) स्थान की संनिर्गता, संकरावन, थोड़े स्थान में अनेक पदार्थों का ढेर, भीड़; (वि.) अरगट, गिचपिच ।

घिचपिचाना—(हि.क्रि.अ.) सिटपिटाना, आगा-पीछा करना ।

घिन—(हि. स्त्री.) घृणा, अरुचि, किसी घृणित वस्तु को देखकर चित्त विगड़ना, जो मिचलाना ।

घिनाना—(हि. क्रि. अ.) घृणा होना ।

घिनावना—(हि. वि.) घृणित, घिनौना ।

घिनौना—(हि.वि.) घृणा उत्पन्न करनेवाला ।

घिनौरी—(हि. स्त्री.) ग्वालिन नाम का बरसाती कीड़ा ।

घिन्नी—(हि. स्त्री.) देखें 'घिरनी', 'गिन्नी' ।

घिया—(हि. पुं.) एक प्रकार की लता जिसके फलों की तरकारी बनती है. लौकी ।

घियाकश—(हि. पुं.) देखें 'कदूकश' ।

घियातरोई, घियातोरई—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की लता जिसके फलों की तरकारी बनती है, नेनुआं, सतपुतिया ।

घिरना—(हि.क्रि.अ.) चारों ओर से घेरा जाना या व्याप्त होना, चारों ओर से एकत्रित होना ।

घिरनी—(हि. स्त्री.) गराड़ी, चक्कर, फेरा, रस्सी बटने की चरखी ।

घिराई—(हि. स्त्री.) घेरने की क्रिया, पशुओं को चराने का काम या मजदूरी ।

घिराव—(हि. पुं.) घेरने का काम, घेरा ।

घिराना—(हि. क्रि. स.) धसीटना, गिड़-गिड़ाना ।

घिरीं—(हि. स्त्री.) देखें 'घिरनी' ।

घिसकना—(हि.क्रि.स.) सरकना, खसकना ।

घिसघिस—(हि. स्त्री.) शिथिलता के कारण विलम्ब, अनिश्चय, गड़बड़ी ।

घिसटना—(हि. क्रि. अ.) धसीटा जाना ।

घिसन—(हि.स्त्री.) रगड़, घिसने का कार्य ।

घिसना—(हि. क्रि. अ., स.) रगड़ना, रगड़ खाकर कम होना ।

घिसपिस—(हि. स्त्री.) मेलजोल, सद्भावना ।

घिसवाना—(हि.क्रि.स.) घिसने का काम दूसरे से कराना, रगड़वाना ।

घिसाई—(हि. स्त्री.) घिसने की क्रिया ।

घिसाना—(हि. क्रि. स.) रगड़वाना ।

घिसाव, घिसावट—(हि. पुं.) रगड़ ।

घिसिर-घिसिर—(हि. स्त्री.) घिसपिस ।

घिस्सा—(हि. पुं.) रगड़, धक्का, ठोकर, कुन्दा, रद्दा, लड़कों का एक खेल ।

घींच—(हि. स्त्री.) गरदन ।

घींचना—(हि. क्रि. स.) खींचना, ऐंचना ।

घी—(हि. पुं.) घृत, तपाया हुआ मक्खन; (मुहा.)—का कुप्पा लुढ़कना—बड़ी हानि होना;—के दिचे जलाना—मनोरथ पूर्ण होना; पाँचों अँगुलियाँ घी में होना—अत्यन्त

सुख या लाभ होना;—खिचड़ी होना—खूब घुलमिल जाना, गहरी दोस्ती होना ।

घीकुआ(वा)र—(हि. पुं.) घृतकुमारी, ग्वारपाठा ।

घीसा—(हि. पुं.) देखें 'घिस्सा' ।

घुंगची, घुंगची—(हि.स्त्री.) गुंजा, गुंजिका, कांची ।

घुंगनी—(हि.स्त्री.) तेल या घी में तला हुआ या पानी में भिगाया हुआ चना, मटर आदि ।

घुंगरारा (रे), घुंगराला (ले)—(हि.वि.) कुंचित या धूम हुए (वाल), छल्लेदार या बल खाये हुए (वाल) ।

घुंगरू—(हि. पुं.) घातु की बनी हुई पोली गुरिया जिसके परस्पर टकराने से घुनघुन शब्द होता है, ऐसी गुरियों का बना हुआ आमूषण, मंजीर, चौरासी,—द्वार—(वि.) जिसमें घुंगरू लगे हों ।

घुंडी—(हि.स्त्री.) कपड़े का बना हुआ मटर के समान गोल बटन, गोपक, कड़े, जोशान आदि के छोरों पर की गाँठ; —द्वार—(वि.) जिसमें घुंडी लगी हो ।

घुआ—(हि. पुं.) देखें 'घूआ' ।

घुइर्या—(हि.स्त्री.) अरई नाम की तरकारी ।

घुघी—(हि.स्त्री.) तिकोना लपेटा हुआ कम्बल जिसको किसान लोग जाड़े से बचने के लिये सिर पर ओढ़ते हैं, धोषी, पंडुक या पेडुकी नामक पक्षी ।

घुघू—(हि.पुं.) उलूक, उल्लू नामक पक्षी ।

घुघुआ—(हि. पुं.) उल्लू, घुघू ।

घुघुआना—(हि. क्रि. अ.) उल्लू की तरह बोलना, बितली की तरह गुराना ।

घुघुनी, घुघुरी—(हि. स्त्री.) देख 'घुघनी' ।

घुटकना—(हि.क्रि.स.) घूँट घूँट करके पी जाना, निगल जाना ।

घुटकी—(हि. स्त्री.) गले की वह नली जिसके द्वारा पेट में खाना-पानी जाता है; आसन्न मृत्यु के समय गले में से निकलने वाला धरधर शब्द, घटका; (मुहा.)—लगना—प्राण का कंठगत होना ।

घुटना—(हि. पुं.) पाँव के बीच का जोड़, टाँग और जाँघ के बीच की गाँठ; (क्रि.अ.) साँस का भीतर रक जाना, फँसना, सकना, कड़ा पड़ना, रगड़कर चिकना होना, धनिष्ठता या मित्रता होना, मिल-जुलकर बात करना; (मुहा.) घुटने टेकना—घुटने के बल बैठना, हार मानना; घुट-घुट कर मरना या जान देना—बहुत कष्ट झेलते हुए मरना; घुटा हुआ—चतुर, प्रवीण ।

घुटना—(हि.पुं.) घुटने तक का पायजामा ।

घुटहूँ—(हि. पुं.) घुटना ।

घुटवाना—(हि. क्रि. स.) घोटने का काम दूसरे से कराना, बाल मुड़वाना ।

घुटाई—(हि. स्त्री.) घोटने या रगड़ने का काम, रगड़कर चिकना करने का पारिश्रमिक ।

घुटाना—(हि.क्रि.स.) घोटने का काम कराना ।

घुटुअन, घुटरन—(हि.अव्य.) घुटने के बल ।

घुटहूँ—(हि. पुं.) घुटना ।

घुट्टी—(हि. स्त्री.) छोटे बच्चों को पाचन के लिये पिलानेवाली दवा ।

घुड़कना—(हि.क्रि.स.) क्रोध में डराने के लिये कोई बात कहना, कड़ककर बोलना, डाँटना, डपटना ।

घुड़की—(हि. स्त्री.) क्रोध में आकर डराने के लिये कड़ककर कही हुई बात, डाँट-डपट, घुड़कने की क्रिया; बंदर-घुड़की—(स्त्री.) झूठमूठ भय दिखलाने का कार्य ।

घुड़चढ़ा—(हि. पुं.) अश्वारोही, घोड़े पर चढ़ा हुआ मनुष्य ।

घुड़चढ़ी—(हि. स्त्री.) विवाह की एक रीति जिसमें दूल्हा घोड़े पर चढ़कर कन्या के घर जाता है, एक प्रकार की छोटी तोप जो घोड़े पर रखकर चलाई जाती है, घुड़नाल ।

घुड़दौड़—(हि. स्त्री.) घोड़ों की दौड़, घोड़ा दौड़ने का स्थान, एक प्रकार की नाव जिसका अगला भाग घोड़े के मुख के आकार का बना रहता है, एक प्रकार का जुए का खेल जिसमें ब्राजी वदकर अनेक घोड़े दौड़ते हैं ।

घुड़नाल—(हि.स्त्री.) एक प्रकार की छोटी तोप जो घोड़े पर रखकर चलाई जाती है ।

घुड़वहल—(हि. स्त्री.) वह रथ जिसमें घोड़ जुते रहते हैं ।

घुड़मक्खी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की मक्खी जो घोड़ों को काटती है ।

घुड़मुँहाँ—(हि. वि., पुं.) लम्बे, भट्टे मुख-वाला (मनुष्य) ।

घुड़सवार—(हि. पुं.) अश्वारोही ।

घुड़सार, घुड़ताल—(हि. स्त्री.) घोड़ों को बाँधने का स्थान, अस्तबल ।

घुड़ुकना—(हि.क्रि.अ.) देखें 'घुड़कना' ।

घुण—(सं. पुं.) घुन ।

घुणाक्षरन्याय—(सं. पुं.) ऐसी रचना जो अनजान में वैसे ही हो जाय जैसे घुन के खाते-खाते लकड़ी में अक्षर की तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं ।

घुन—(हि. पुं.) घुण, छोटा कीड़ा जो अन्न, लकड़ी आदि में लगता है; (मुहा.)

-लगना-धुन द्वारा अन्न आदि का साया जाना, भीतर-भीतर क्षय होना ।
 धुनधुना-(हि. पुं.) देरों 'धुनधुना' ।
 धुनना-(हि. क्रि. अ.) धुन द्वारा लकड़ी आदि का साया जाना, भीतर ही भीतर क्षय होना ।
 धुना-(हि. वि.) अपने चित्त के भावों को मन में ही रखनेवाला, मन में बुरा माननेवाला, चुप्पा ।
 धुनी-(हि. वि. स्त्री.) मन का आवेग मन में रखनेवाली, चुप्पी ।
 धुप-(हि. वि.) गहरा (अन्वकार) ।
 धुमंडना-(हि. क्रि. अ.) वादलों का मंडराना ।
 धुमवकड़-(हि. वि.) बहुत धूमनेवाला ।
 धुमची-(हि. स्त्री.) गुजा, धुंधची ।
 धुमटा-(हि. पुं.) सिर में चक्कर आना, सिर धुमना ।
 धुमड़-(हि. स्त्री.) वरसनेवाले वादलों का घेरना ।
 धुमड़ना-(हि. क्रि. अ.) वादलों का इकट्ठा होना, मेघों का छा जाना ।
 धुमड़ा, धुमरा-(हि. स्त्री.) चक्कर की तरह धुमना, सिर में चक्कर आना ।
 धुमड़ी-(हि. स्त्री.) सिर का चक्कर खाना ।
 धुमना-(हि. वि.) अधिक धूमनेवाला, धुमवकड़ ।
 धुमनी-(हि. स्त्री.) पशुओं का एक रोग; (स्त्री.) धूमनेवाली स्त्री (समस्त पदों में अंत में) ।
 धुमरना-(हि. क्रि. अ.) तीव्र शब्द करना, जोर से बजना, धुमड़ना ।
 धुमराना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'धुमरना' ।
 धुमरी-(हि. स्त्री.) भेंवर, चक्कर, धुमड़ी ।
 धुमाना-(हि. क्रि. स.) चारों ओर फिराना, चाकर देना, सैर कराना, टहलाना, मरोड़ना, ऐंठना, किसी अन्य विषय में प्रवृत्त करना ।
 धुमाव-(हि. पुं.) धूमने का कार्य, चक्कर, फेरा, मांग का माड़ ।
 धुमावदार-(हि. वि.) जिरामें धुमाव हो, चक्करदार ।
 धुमरना-(हि. वि. अ.) देखें 'धुमरना' ।
 धुरकना-(हि. क्रि. स.) देखें 'धुक्कना' ।
 धुरका-(हि. पुं.) चौपायों का एक रोग ।
 धुरधुरा-(हि. पुं.) जींगुर ।
 धुरधुराना-(हि. क्रि. अ.) कण्ठ से धुरधुर शब्द निकलना ।
 धुरधुराहट-(हि. स्त्री.) धुरधुर शब्द ।
 धुरना-(हि. क्रि. अ.) धूलना, शब्द करना, बताना ।

धुरधिनिया-(हि. स्त्री.) धूर पर से अन्न आदि बटोरने का कार्य, सड़क या गली में से टूटी-फूटी वस्तुएँ बटोरकर इकट्ठा करने का काम ।
 धुर(र)हुरी-(हि. स्त्री.) पगडंडी ।
 धुराना-(हि. क्रि. अ.) भर आना ।
 धुमित-(हि. वि.) धूमता या चक्कर खाता हुआ ।
 धुराना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'गुराना' ।
 धुलना-(हि. क्रि. अ.) तरल पदार्थों में गल कर परस्पर मिल जाना, गलना, द्रवित होना, अधिक पककर पिलपिला या नरम होना, मृदु होना, रोग से शरीर का क्षीण होना, दुबल होना, कष्ट से समय बीतना; धुल-धुल कर बात करना-बड़ी घनिष्ठता से हृदय खोलकर बातें करना; धुल-मिलकर-मेल-जोल के साथ; धुल-धुल कर मरना-अधिक समय तक कष्ट भोगकर मरना ।
 धुलवाना-(हि. क्रि. स.) गलवाना, द्रवित करना, आँखों में सुरमा लगवाना, क्षीण कराना ।
 धुलाना-(हि. क्रि. स.) गलाना, शरीर दुबल करना, मुख में रखकर रस चूसना, चुमलाना, कोमल करना, सुरमा लगाना, समय विताना ।
 धुलावट-(हि. स्त्री.) धुलाने की क्रिया ।
 धुवा-(हि. पुं.) देख 'धुआ' ।
 धुसड़ना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'धुसना' ।
 धुसना-(हि. क्रि. अ.) प्रवेश करना, भीतर जाना, चुभना, घँसना, गड़ना, विना अधिकार के कोई कार्य करना, किसी विषय में पूरा ध्यान लगाना; (मुहा.) धुसकर बैठना-छिपे रहना, मुँह न दिखलाना ।
 धुसपैठ-(हि. स्त्री.) प्रवेश, गति, पहुँच, रसोई ।
 धुसवाना-(हि. क्रि. स.) धुसाने का काम दूसरे से कराना ।
 धुसाना-(हि. क्रि. स.) भीतर प्रवेश करना, चुभाना, घँसाना, पैठाना ।
 धुसेड़ना-(हि. क्रि. स.) धुसाना, घँसाना, पैठाना ।
 धुंधर-(हि. पुं.) वस्त्र का वह भाग जिससे स्त्रियाँ अपना मुख टाँप लेती हैं, बाहरी किवाड़ के सामने की भीत जो आँगन को बाहर से छिपाए रहती है, ओट ।
 धुंधर-(हि. पुं.) वालों में पड़े हुए मरोड़ या कुंचन; -वाले-(वि.) धुंधराले, कुंचित, लच्छेदार, झबरीले ।

धुंधरी-(हि. स्त्री.) धुंधरु, क्षुद्रघण्टिका ।
 धुंधरु-(हि. पुं.) देखें 'धुंधरु' ।
 धुँट-(हि. पुं.) पानी, दूध इत्यादि द्रव पदार्थ का उतना अंश जो एक बार गले से नीचे उतारा जाय ।
 धुँटना-(हि. क्रि. स.) किसी द्रव पदार्थ को गले से नीचे उतारना, पीना ।
 धुँटी-(हि. स्त्री.) छोटे बच्चों का पाचन सुवारने की औषध जो उनको नित्य पिलाई जाती है; जनम-धुँटी-(स्त्री.) वह औषध जो बच्चों का पेट साफ रखने के लिये जन्म से ही पिलाई जाती है ।
 धुँस-(हि. स्त्री.) उत्कोच, धूस ।
 धुँसा-(हि. पुं.) बंधी हुई मुट्ठी, मुक्का; (क्रि. प्र.)-चलाना-धुँसा मारना; धुँसेवाजी-(स्त्री.) धुँसे की लड़ाई ।
 धुँआ-(हि. पुं.) मूँज, सरकंडे आदि का रुई की तरह का फूल, एक प्रकार का कीड़ा ।
 धुँक-(हि. पुं.) उल्लू पक्षी, धुग्धु ।
 धुँका-(हि. पुं.) सँकरे मुँह की डलिया ।
 धुँस-(हि. पुं.) ऊँचा बुर्ज, गरगज ।
 धुँध-(हि. पुं.) लोहे या पीतल की टोपी जो लड़ाई में सिर पर चोट बचाने के लिये पहनी जाती है ।
 धुँधी-(हि. स्त्री.) जेब, खरीता, पेंडुकी ।
 धुँधू-(हि. पुं.) देखें 'धुग्धू' ।
 धुँटना-(हि. क्रि. अ.) धुँटना ।
 धुँम-(हि. स्त्री.) धुमाव, मोड़, चक्कर ।
 धुँम-धुमारना-(हि. वि.) उन्मत्त, मतवाला ।
 धुँमना-(हि. क्रि. अ.) इधर-उधर फिरना, चक्कर लगाना, यात्रा करना, मंडराना, कावा काटना, मूड़ना, लौटना, उन्मत्त होना; धुँम पड़ना-एकाएक क्रुद्ध होना ।
 धुँसनी-(हि. स्त्री.) सिर का चक्कर ।
 धुँर-(हि. पुं.) कूड़ा-करकट फेंकने का स्थान, कूड़े का ढेर ।
 धुँरना-(हि. क्रि. स.) आँख गड़ाकर देखना, बुरी दृष्टि से देखना, क्रोध से एकटक देखना, धुमना, टहलना ।
 धुँरा-(हि. पुं.) कूड़ा-करकट का ढेर, कतवार रखने का स्थान ।
 धुँस-(हि. स्त्री.) उत्कोच; (पुं.) एक प्रकार का चूहा; -धोर-(पुं.) उत्कोच लेनेवाला; -खोरी-(स्त्री.) धूस लेने का कार्य ।
 धुँणा-(सं. स्त्री.) धिन, वीगत्स रस का भाव ।
 धुँणित-(सं. वि.) धुँणा करने योग्य ।
 धुँत-(सं. पुं.) धो ।

घृतकुमारी—(सं.स्त्री.) घीकुआर,स्वारपाठा।
 घृतपूर—(सं.पुं.) घेवर नामक पत्रवात्र।
 घृताची—(सं.स्त्री.) स्वर्ग की एक अप्सरा का नाम।
 घेंघ, घेंघा—(हिं.पुं.) मिमोये हुए चने और चावल का बना हुआ खाद्य पदार्थ, गले का एक रोग जिसमें कण्ठ फूल जाता है।
 घेंटा—(हिं.पुं.) सुअर का छोटा बच्चा।
 घेघा—(हिं.पुं.) गले की नली जिससे भोजन तथा पानी पेट में जाता है, घेंघा रोग, गलगंड।
 घेर—(हिं.पुं.) परिधि, चारों ओर का फैलाव।
 घेरघार—(हिं.पुं.) चारों ओर से घेरने की क्रिया, चारों ओर वादल छा जाना, विस्तार, अनुरोध।
 घेरना—(हिं.क्रि.स.) चारों ओर हो जाना, चारों ओर से छेकना, बाँधना, रोकना, ग्रसना, पशुओं को चराना, फँसाये रखना, अनुरोध करना, विनय करना।
 घेरा—(हिं.पुं.) चारों ओर की सीमा, परिधि का मान, फैलाव, चारों ओर घेरनेवाली वस्तु, मण्डल, घिरा हुआ स्थान, चारों ओर से सेना द्वारा छेकने का काम।
 घेराई—(हिं.स्त्री.) देखें 'घिराई'।
 घेराव—(हिं.पुं.) देखें 'घिराव'।
 घलौना—(हिं.पुं.) घेलुआ, घाल।
 घवर—(हिं.पुं.) एक प्रकार की मिठाई।
 घया—(हिं.स्त्री.) विना मधे हुए दूध के ऊपर का मक्खन इकट्ठा करने का कार्य, वृक्ष में से रस निकालने के लिये कुल्हाड़ी आदि से उसे थोड़ा सा काटना; (स्त्री.) ओर।
 घैर, घरू, घरो—(हिं.पुं.) अपमान, अपयश, चुगली, गुप्त रूप से दुर्नाम करना।
 घैला—(हिं.पुं.) कलश, घड़ा, गगरा।
 घैहल—(हिं.वि.) धाव लगा हुआ।
 घैहा—(हिं.वि.) देखें 'घैहल'।
 घौघ—(हिं.पुं.) एक प्रकार की चिड़िया।
 घोघा—(हिं.पुं.) शंख के आकार का एक कीड़ा जो जलाशयों में पाया जाता है, शम्बक; (वि.) मूर्ख, जिसमें कुछ तत्त्व न हों; -वसंत—(पं.) बड़ा मूर्ख।
 घोंची—(हिं.स्त्री.) वह गाय जिसकी सींग मुड़कर कान में जाकर मिल जाती है।
 घोचुआ (वा)—(हिं.पुं.) नीड़, घोंसला।
 घोचू—(हिं.पुं.) मूर्ख, जड़बुद्धि।
 घोट—(हिं.पुं.) घोटने का काम, घूंट, एक प्रकार का वृक्ष।
 घोटना—(हिं.क्रि.स.) पानी-दूध इत्यादि को थोड़ा-थोड़ा करके गले के नीचे उतारना,

पचा जाना, गला मरोड़ना या ऐँठना।
 घोपना—(हिं.क्रि.स.) गड़ाना, घँसाना, चुमाना, गँथना, बुरी तरह से सिलाई करना।
 घोसला—(हिं.पुं.) पक्षी के रहने का घास-फूस से बनाया हुआ घर, नीड़, खोंता।
 घोमुआ—(हिं.पुं.) घोंसला।
 घोखना—(हिं.क्रि.स.) पाठ को याद करने के लिये उसको बारंबार दोहराना, रटना, घोटना।
 घोखवाना—(हिं.क्रि.स.) रटवाना।
 घोघा—(हिं.पुं.) चने के फल को नष्ट करनेवाला एक प्रकार का कीड़ा।
 घोघी—(हिं.स्त्री.) देखें 'घुघी'।
 घोट, घोटक—(सं.पुं.) अश्व, घोड़ा।
 घोटना—(हिं.क्रि.स.) चिकना और महीन करने के लिये रगड़ना, सिल पर बट्टे से रगड़ देना, रगड़कर चमकाना, अभ्यास करना, रटना, डाँट-फटकार देना, मूड़ना, गला मरोड़ना; (पुं.) घोटने का औजार।
 घोटनी—(हिं.स्त्री.) घोटने की कोई छोटी वस्तु।
 घोटवाना—(हिं.क्रि.स.) घोटने का काम दूसरे से कराना, रगड़वाना, चमकवाना, सिर या दाढ़ी के बाल मुड़वाना।
 घोटा—(हिं.पुं.) घोटने का साधन, घुटा हुआ चमकीला वस्त्र, रगड़, घोटाई।
 घोटाई—(हिं.स्त्री.) घोटने की क्रिया या शुक।
 घोटाला—(हिं.पुं.) गड़बड़, उपद्रव।
 घोटू—(हिं.वि.) घोटनेवाला।
 घोड़-चढ़ा, घोड़दौड़—(हिं.वि., पुं.) देखें 'घुड़चढ़ा' 'घुड़दौड़'।
 घोड़राई—(हिं.स्त्री.) बड़े-बड़े दाने की राई।
 घोड़साल—(हिं.स्त्री.) घोड़ा बँधने का स्थान, घुड़साल।
 घोड़ा—(हिं.पुं.) घोटक, अश्व, बंदूक में गोली चलाने का खटका, शतरंज का एक मोहरा; (मुहा.)—उठाना-घोड़ा दौड़ाना; -कसना-घोड़े की पीठ पर सवारी के लिये जीन कसना; -निकालना-सिखाकर घोड़े को सवारी के योग्य बनाना; -फँकना-घोड़ा दौड़ाना; -बचकर सोना-निश्चिन्त होकर सोना।
 घोड़ा-गाड़ी—(हिं.स्त्री.) घोड़े से चलनेवाली गाड़ी।
 घोड़ानस—(हिं.स्त्री.) वह बड़ी और मोटी नस जो एड़ी के पीछे से ऊपर को जाती है।
 घोड़ाबच—(हिं.पुं.) खुरासानी बच।

घोड़िया—(हिं.स्त्री.) भीत में लगाई हुई लुंटी, छोटा घोड़ा।
 घोड़ी—(हिं.स्त्री.) मादा घोड़ा, चीजें रखने की लम्बी पटरी, विवाह का एक गीत।
 घोर—(सं.वि.) भयंकर, विकराल, डरावना, घना, कठिन, दुर्गम, गाढ़ा, गहरा, बुरा, अत्यन्त; (स्त्री.) गरज, ध्वनि।
 घोरा—(हिं.पुं.) घोड़ा।
 घोरना—(हिं.क्रि.अ.) भयंकर शब्द करना, गरजना।
 घोरिया—(हिं.स्त्री.) देखें 'घोड़िया'।
 घोरिला—(हिं.पुं.) लड़कों के खेलने का मिट्टी का घोड़ा।
 घोरी—(हिं.स्त्री.) घोड़ी।
 घोल—(हिं.पुं.) घोलकर बनाया हुआ पदार्थ, मट्टा।
 घोलना—(हिं.क्रि.स.) किसी द्रव पदार्थ में कोई वस्तु हिलाकर मिलाना, हल करना; (मुहा.) घोलकर पी जाना—किसी विषय में पारंगत ज्ञान अर्जन करना, निगल जाना।
 घोप—(सं.पुं.) अहीरों की वस्ती अहीर, गोशाला, शब्द, किनारा, तट, गरज, व्याकरण में शब्दों के उच्चारण का एक बाह्य प्रयत्न।
 घोषणा—(सं.स्त्री.) ऊँचे स्वर में सूचना, मुनादी, डुग्गी, ध्वनि, आवाज।
 घोसना—(हिं.क्रि.स.) घोषित करना, उच्चारण करना।
 घोसी—(हिं.पुं.) अहीर ग्वाला।
 घोद—(हिं.पुं.) फलों का गुच्छा।
 घौर, घौरा—(हिं.पुं.) फलों का गुच्छा, घोद प्राण—(सं.पुं.) सूँघने की शक्ति, सुगन्ध, नाक।
 प्राणेंद्रिय—(सं.पुं.) नाक।
 प्रात—(सं.वि.) सूँघा हुआ।
 प्रातव्य—(सं.वि.) सूँघने योग्य।
 प्राता—(सं.वि.) सूँघनेवाला।
 प्रेय—(सं.वि.) सूँघने योग्य।

३

व्यञ्जन वर्णों का पाँचवाँ तथा ङ-कवर्ण का अन्तिम वर्ण, इसका उच्चारण कण्ठ और नासिका से होता है; (सं.पुं.) प्राण-शक्ति, गन्ध, सुगन्ध, गौरव, महत्त्व।

च

च-हिन्दी वर्णमाला का चारहवाँ अक्षर तथा छठवाँ ध्वजन, इसका उच्चारण-स्थान तालु है।
 चंक-(हि.वि.) पूर्ण, पूरा, समस्त, समूचा।
 चक्रमप-(सं. पुं.) बारम्बार घूमना, टहलना।
 चंग-(फ़ा.पुं.) एक छोटा वाजा जो टफ के आकार का होता है, गॅंजीफ का एक रंग; (स्त्री.) गुड्डो, कनकैया, पतंग; (मुहा.) -चड़ना-जोरों की बातें होना, खूब जोर होना; -पर चढ़ाना-इधर-उधर की बातें समझाकर अपने अनुकूल करना।
 चंगना-(हि.क्रि.स.) काट देना, तंग करना, खींचना, कसना।
 चंगवाई-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का वात रोग जिसमें हाथ-पाँव जकड़ जाते हैं।
 चंगा-(हि. वि.) आरोग्य, स्वस्थ, नीरोग, नला, सुन्दर, शुद्ध, निर्मल।
 चंगु, चंगुल-(हि. पुं.) पंजा, पकड़, पगुओं या पदियों का पंजा, अँगुलियों की पकड़; (मुहा.) -में फँसना-वंश में आना, पंजे में फँस जाना।
 चंगेर, चंगेरी-(हि. स्त्री.) वाँस की बनी हुई छिछली चौड़ी टोकरी, फूल रखने की टलिया, छोटे बच्चे का झूला, मशक।
 चंगली-(हि. स्त्री.) देख 'चंगेर', 'चंगेरी'।
 चंच-(हि. स्त्री.) देखें 'चंचु'।
 चंचरी-(हि. स्त्री.) पानों का भँवर, होली में गाने का एक गीत, हरिप्रिया छन्द, एक मात्रिक छन्द जिसके प्रत्येक पद में छव्वीस मात्राएँ होती हैं।
 चंचरीक-(सं. पुं.) भँवरा, भ्रमर।
 चंचल-(सं. वि.) (स्त्री. चंचला) एक जगह या एक स्थिति में न रहनेवाला, अस्थिर, उद्दिग्ध, नटखट, चुलबुला, सोख, कामुक।
 चंचलता-(सं. स्त्री.) चंचल होने का भाव या अवस्था, चपलता।
 चंचला-(सं. स्त्री.) विद्युत्, विजली, लक्ष्मी, पिणली।
 चंचलताई, चंचलाई-(हि. स्त्री.) चपलता, चंगलता।
 चंचलाहट-(हि. स्त्री.) चपलता, चंचलता।
 चंचा-(हि. स्त्री.) पक्षियों आदि को चलाने के लिये नेतों में रखा हुआ घास-पूंग, काली हाँड़ी आदि का पुतला।
 चंचु-(सं. पुं.) एक प्रकार का साग, रेंड, किरन; (स्त्री.) चोंच।
 चंचोरना-(हि. क्रि. स.) दाँतों से दबाकर

चूसना, चिचोरना।
 चंट-(हि. वि.) घूर्त, सयाना, चतुर।
 चंठ-(सं. वि.) तेज, तीक्ष्ण, प्रखर, उग्र, दुर्दमनीय, कठोर, उद्धत, क्रोधी, गुस्सावर।
 चंडता-(सं. स्त्री.) उग्रता, प्रखरता, तीव्रता, बल, प्रताप।
 चंड-मुंड-(सं. पुं.) दो राक्षसों के नाम जो दुर्गा देवी के हाथों से मारे गये थे।
 चंटाई-(हि. स्त्री.) शीघ्रता, उतावलापन, प्रबलता, अत्याचार।
 चंडाल-(हि. पुं., स्त्री. चंडालिन) श्वपच, डोम।
 चंडालत्व-(सं. पुं.) देखें 'चंडालता'।
 चंडालपन-(हि. पुं.) अधमता, नीचता।
 चंडालिनी-(सं. स्त्री.) चंडाल की स्त्री, दुष्टा स्त्री।
 चंडावल-(हि. पुं.) सेना के पीछे का भाग, वीर, योधा, पहरेदार, चौकीदार।
 चंडाह-(हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा वस्त्र।
 चंडि, चंडिका-(सं. स्त्री.) दुर्गा।
 चंडी-(सं. स्त्री.) दुर्गा, उग्र स्वभाव की शगड़ाल और कर्कशा स्त्री।
 चंडीश-(सं. पुं.) शिव, महादेव।
 चंडू-(हि. पुं.) एक मादक पदार्थ जो तंबाकू की तरह पीया जाता है।
 चंडूखाना-(हि. पुं.) वह स्थान जहाँ लोग इकट्ठा होकर चंडू पीते हैं; (मुहा.) चंडू खाने की गप-(स्त्री.) विलकुल झूठ बात।
 चंडूवाज-(हि. पुं.) चंडू पीनेवाला मनुष्य।
 चंडूल-(हि. पुं.) एक भूरे रंग की चिड़िया जो बड़ा मयूर बोलती है; मूर्ख या भद्दा मनुष्य; पुराना चंडल-(पुं.) भद्दा मनुष्य।
 चंडोल-(हि. पुं.) हौदे के आकार की पालकी।
 चंद-(सं. पुं.) चंद्रमा, कपूर।
 चंद-(फ़ा. वि.) कुछ, थोड़े से, दो चार; -रोजा-(वि.) थोड़ा दिन टिकनेवाला।
 चंदक-(हि. पुं.) चंद्रमा, चाँदनी, चाँद, मछली, एक अर्ध चन्द्राकार गहना जो माथे पर पहना जाता है, नयिया में जड़ा हुआ छोटा नग।
 चंदन-(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध पेड़ जिसकी लकड़ी बहुत सुगंधित होती है, इसकी लकड़ी, इसकी लकड़ी घिसकर बनाया हुआ लेप।
 चंदनगिरि-(सं. पुं.) मलयाचल।
 चंदनपुष्प-(सं. पुं.) चंदन का फूल।
 चंदन-सार-(सं. पुं.) चंदन का लेप।
 चंदनी-(हि. स्त्री.) देखें 'चाँदनी'।
 चंदनीया-(हि. स्त्री.) गोरोचन।
 चंदनोता-(हि. पुं.) एक प्रकार का लहंगा।

चंदवाण-(हि. पुं.) एक प्रकार का वाण जिसके सिरे पर अर्धचन्द्राकार फल लगा रहता है।
 चंदराना-(हि. क्रि. स.) वहकाना, वहलाना, जान-बूझकर अनजान बनना।
 चंदला-(हि. वि.) जिसके सिर पर के बाल झड़ गये हों, खल्वाट, गुंजा।
 चंदवा-(हि. पुं.) सिंहासन या गद्दी के ऊपर लगाया हुआ छोटा मण्डप, चंदोवा, वितान, गोलाकार चकती, मोर की पूँछ पर का अवचन्द्राकार चिह्न, चंद्रिका।
 चंदा-(हि. पुं.) चन्द्रमा, दान के रूप में बहुतां से लिया जानेवाला थोड़ा-थोड़ा धन, बेहरी, किसी धार्मिक संस्था को समय-समय पर सदस्यों द्वारा सहाय्यतार्थ दिया जानेवाला धन।
 चंदामामा, चंदामाम-(हि. पुं.) चंद्रमा (बच्चों को वहलाने के लिए कहा जाता है)।
 चंदावत-(हि. पुं.) क्षत्रियों की एक जाति।
 चंदावती-(हि. स्त्री.) एक रागिनी का नाम।
 चंदिका-(हि. स्त्री.) देखें 'चंद्रिका'।
 चंदिनि, चंदिनी-(हि. स्त्री.) चंद्रिका, चाँदनी, उजेली चाँदनीवाली रात।
 चंदिया-(हि. स्त्री.) कपाल का मध्य भाग, खोपड़ी; (मुहा.) -खाना-व्यर्थ की बकवाद करके सिर खाना; -पर बाल न छोड़ना-सब कुछ ले लेना।
 चंदिर-(हि. पुं.) चन्द्रमा, गज, हाथी।
 चंदेरी-(हि. स्त्री.) ग्वालियर राज्य के नरवार जिले का एक प्राचीन नगर।
 चंदेरीपति-(हि. पुं.) चंदेरी का राजा, शिशुपाल।
 चंदेल-(हि. पुं.) क्षत्रियों की एक शाखा, (परमाल राजा इसी वंश के थे।)
 चंदोया, चंदोवा-(हि. पुं.) देखें 'चंदवा'।
 चंद्र-(सं. पुं.) चंद्रमा, कपूर, जल, मोर की पूँछ पर के चिह्न, सोना, सुवर्ण, वह विदी (°) जो आनुनासिक उच्चारण-वाले अक्षर पर लगाई जाती है, (समस्त पदों के अन्त में) श्रेष्ठ।
 चंद्रकर-(सं. पुं.) चाँदनी, चंद्र-किरण।
 चंद्रकला-(सं. स्त्री.) चंद्रमा की सोलह कला।
 चंद्रकलाधर-(सं. पुं.) शिव, महादेव।
 चंद्रकांत-(सं. पुं.) एक रत्न जिसके विषय में यह प्रसिद्धि है कि यह चंद्र-किरण में पत्तीजता है।
 चंद्रकांता-(सं. स्त्री.) चन्द्रमा की पत्नी, चाँदनी रात।
 चंद्रकांति-(सं. स्त्री.) चाँदनी, चाँदी।
 चंद्रकी-(सं. पुं.) मोर, मयूर।

चंद्रगुप्त—(सं. पुं.) मौर्य वंश का संस्थापक सम्राट् जिसने ईसा-पूर्व चौथी शताब्दी में भारत पर शासन किया, गुप्त वंश का एक सम्राट् ।
 चंद्रग्रहण—(सं. पुं.) चंद्रमा का ग्रहण ।
 चंद्रचूड़—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 चंद्र-जोत—(हि. स्त्री.) चाँदनी ।
 चंद्र-धनु—(सं. पुं.) चाँदनी में दिखाई पड़नेवाला इंद्र-धनुष ।
 चंद्र-धर—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 चंद्र-प्रभा—(सं. स्त्री.) चंद्रमा की किरण या ज्योति ।
 चंद्रबि (वि) द्यु—(सं. पुं.) अर्ध आनुस्वारिक विद्यु चिह्न () ।
 चंद्र-दिग्—(सं. पुं.) चंद्रमा का मंडल ।
 चंद्र-भाल—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 चंद्र-मणि—(सं. पुं.) चंद्रकांत मणि ।
 चंद्रमा—(सं. पुं.) चाँद, चंद्र ।
 चंद्रमौलि—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 चंद्ररेखा, चंद्रलेखा—(सं. स्त्री.) चाँदनी, चाँद की कलाएँ, एक वर्णवृत्त, एक अक्षरा ।
 चंद्रलोक—(सं. पुं.) चंद्रमा का लोक ।
 चंद्रवार—(सं. पुं.) सोमवार ।
 चंद्रहार—(सं. पुं.) गले में पहनने का एक रत्नजटित हार ।
 चंद्रहास—(सं. पुं.) तलवार, रावण की तलवार ।
 चंद्रातप—(सं. पुं.) चंद्रकिरण, चाँदोवा ।
 चंद्रिका—(सं. स्त्री.) चाँदनी, कौमुदी, मोर के पंख पर का गोल चिह्न, एक देवी, एक वर्णवृत्त ।
 चंद्रोदय—(सं. पुं.) चंद्रमा का उदय ।
 चंप—(हि. पुं.) चंपा, कचनार का वृक्ष ।
 चंपई—(हि. वि.) चंपा के रंग का, पीला ।
 चंपक—(सं. पुं.) चंपा का फूल ।
 चंपत—(हि. वि.) अन्तर्धान, गायव ।
 चंपना—(हि. क्रि. अ.) भार से दबना, लज्जित होना, उपकार से दब जाना ।
 चंपा—(हि. स्त्री.) एक सुगंधित पीला फूल ।
 चंपाकली—(हि. स्त्री.) गले का एक आमू-पण जिसमें सोने के चंपा की कली के समान दाने रेशम में पिरोकर गुंथे होते हैं ।
 चंपारण्य—(हि. पुं.) चम्पारन जिला ।
 चंबल—(हि. स्त्री.) एक नदी जो इटावे के पास बहती है, सिचाई के लिये नहर का पानी ऊपर चढ़ाने की लकड़ी, पानी की बाढ़ ।
 चंबल—(हि. पुं.) मिक्षा माँगने का खप्पर, चिलम का सरपोश ।
 चंबली—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छोटा

प्याला ।
 चंबी—(हि. स्त्री.) चिप्पड़, पट्टी, कतरन ।
 चंबू—(हि. पुं.) एक प्रकार का घान, टोटीदार छोटा गड्डा, झारी ।
 चंबर—(हि. पुं.) चामर, सुरा गाय की पूंछ के बालों का गुच्छा जो मक्खी, मच्छड़ उड़ाने के लिये राजाओं या देव-मूर्तियों के सिर पर डोलाया जाता है, घोड़ा या हाथी के सिर पर लगाने की कलेंगी, फुंदना, झालर; -डार—(पुं.) चंबर डोलानेवाला नौकर ।
 चंबरी—(हि. स्त्री.) डाँड़ी में बँधा हुआ घोड़े की पूंछ के बाल ।
 चंसुर—(हि. पुं.) हालिम नामक पीषा ।
 चइत—(हि. पुं.) चैत, चैत का महीना ।
 चइन—(हि. पुं.) देखें 'चैन' ।
 चउ—(हि.) उपसर्ग जो 'चौ' के अर्थ में कुछ शब्दों में प्रयुक्त होता है; यथा—चउक—चौक; चउथा—चौथा; चउपाई—चौपाई इत्यादि ।
 चउतरा—(हि. पुं.) देखें 'चवूतरा' ।
 चउर—(हि. पुं.) चमर, मोरछल ।
 चउहट्ट—(हि. पुं.) - चौहट्टा, चौहट्टा, चौहमानी ।
 चक—(हि. पुं.) चकई नाम का लड़कों का खिलौना, चकवा पक्षी, चक्र नामक अस्त्र, चक्का, पहिया, भूमि का बड़ा खंड, पट्टी, छोटा गाँव, पुरवा, किसी बात की अधिकता, अधिकार; (पुं.) चौटी में बाँधने का सोने का चक्र; (वि.) अधिक व्यग्र, भौचक्का, धवड़ाया हुआ ।
 चकई—(हि. स्त्री.) घिरनी के आकार का एक खिलौना, माँदा चकवा ।
 चकचक—(हि. वि.) भौचक्का, हक्का-वक्का ।
 चकचकाना—(हि. क्रि. अ.) किसी द्रव पदार्थ का रसकर बाहर निकलना, भीग जाना ।
 चकचकी—(हि. स्त्री.) करताल नामक वाजा ।
 चकचाना—(हि. क्रि. अ.) चकाचौंध लगना, चौंधियाना ।
 चकवाल—(हि. पुं.) चक्कर, भ्रमण ।
 चकचाव—(हि. पुं.) चकाचौंध, चकचौंध ।
 चकचून—(हि. वि.) चूर्ण किया हुआ, पीसा हुआ ।
 चकचूरना—(हि. क्रि. स.) चूर चूर करना ।
 चकचौही—(हि. वि.) चिकनी-चुपड़ी ।
 चकचौंध—(हि. पुं.) देखें 'चकाचौंध' ।
 चकचौंधना—(हि. क्रि. अ., स.) अधिक प्रकाश के कारण आँखों का स्थिरन रहना, आँख तिलमिलाना, आँखों में निलमिलाहट उत्पन्न करना ।

चकचौह—(हि. पुं.) देखें 'चकाचौंध' ।
 चकचौंधना—(हि. क्रि. अ.) टंकटकी बाँधे हुए देखना ।
 चकड़वा—(हि. पुं.) उपद्रव, बखेड़ा ।
 चकडोर—(हि. स्त्री.) चकई नामक खिलौने में लपेटा हुआ डोर, जुलाहे के करघे में लगी हुई डोरी ।
 चकता—(हि. पुं.) देखें 'चकता' ।
 चकती—(हि. स्त्री.) चमड़े, धातु या कपड़े का गोल या चौकोर चुकड़ा, पट्टी, घञ्जी, फटेकपड़े, चमड़ आदि में छेद बंद करने के लिए लगाया हुआ छोटा टुकड़ा, थिंगली; (मुहा.) वादल में चकती लगाना—असंभव कार्य करने की चेष्टा करना ।
 चकता—(हि. पुं.) शरीर के किसी भाग पर पड़ा हुआ घब्बा, चमड़े के ऊपर पड़ी हुई चिपटी सूजन, दबोरा, दाँत काटने का चिह्न, चकताई वंश का पुरुष ।
 चकदार—(हि. पुं.) चक या खेत के बड़े खंड का स्वामी ।
 चकना—(हि. क्रि. अ.) भौचक्का होना, चकित होना, चौंकना, चकपकाना ।
 चकनाचूर—(हि. वि.) टूट-फूटकर जिसके छोटे टुकड़े हो गए हों, टुकड़-टुकड़े किया हुआ, अति श्रान्त, बहुत थका हुआ ।
 चकपक, चकवक—(हि. वि.) चकित ।
 चकपकाना—(हि. क्रि. अ.) चकित होकर इधर-उधर ताकना, भौचक्का होना ।
 चकफरी—(हि. स्त्री.) परिक्रमा, भँवरी ।
 चकबंदी—(हि. स्त्री.) खेतों का बड़े टुकड़ों या चकों में बँटवारा ।
 चकमक—(हि. पुं.) एक तरह का पत्थर जिसपर आघात करने से चिनगारी निकलती है ।
 चकमा—(हि. पुं.) घोखा, छल, मुलावा ।
 चकर—(हि. पुं.) चक्रवाक, चकवा, चक्कर ।
 चकरवा—(हि. पुं.) कठिन अवस्था, चक्कर, असमंजस, बखेड़ा, झगड़ा ।
 चकरा—(हि. पुं.) पानी का भँवर; (वि.) फँसा हुआ, चौड़ा ।
 चकराना—(हि. क्रि. अ., स.) (सिर) चक्कर देना, धूमना, चकित होना, भूलना, चकपकाना, व्यग्र होना, धवड़ाना, हैरान होना, आश्चर्य में डालना ।
 चकरानी—(हि. स्त्री.) दासी ।
 चकरिया—(हि. पुं.) सेवक, नौकर ।
 चकरी—(हि. स्त्री.) दाल दरने या आटा पीसने की चक्की, चकई नामक लड़कों का खिलौना; (वि. स्त्री.) अस्थिर, चंचल, इधर-उधर धूमनवाली, चौड़ी ।

चक्रलक्ष—(हि. स्त्री.) चौड़ाई।
 चक्रला—(हि. पुं.) पत्थर या काठ का गोल चिकना पट्टा जिस पर रोटी बेली जाती है, चौका, जिला, रंडियों के रहने का मोहल्ला; (वि.) चौड़ा।
 चक्रलाना—(हि. क्रि. स.) चौड़ा करना।
 चक्रली—(हि. स्त्री.) गड़ारी, घिरनी, छोटा चक्रला।
 चक्रलेदार—(हि. पुं.) किसी प्रान्त का अधिकारी, कर वसूल करनेवाला।
 चक्रलक्ष—(हि. स्त्री.) बखेड़ा, झंझट।
 चक्रवर्द्ध—(हि. पुं.) एक प्रकार का वर-साती पांवा, कुम्हार का चाक के पास रखने का जल का पात्र।
 चक्रवा—(हि. पुं.) चक्रवाक पक्षी, हंस की जाति की एक चिड़िया। (इसके विषय में कहा जाता है कि वह रात में अपने जोड़े से बिछड़ जाता है।)
 चक्रवाना—(हि. क्रि. अ.) चकित होना, चकपकाना।
 चक्रवारि—(हि. पुं.) कच्छप, कछुवा।
 चक्रवी—(हि. स्त्री.) चकई।
 चक्रवाह—(हि. पुं.) देखें 'चक्रवा'।
 चक्रहा—(हि. पुं.) चक्रा, पहिया।
 चक्रा—(हि. पुं.) चाक, पहिया, चक्रा, चक्रा पक्षी।
 चक्राचक्र—(हि. स्त्री.) निरन्तर प्रहार का शब्द; (अव्य., वि.) तर-वतर, लक्षपथ, भरपूर, पेट भरकर।
 चक्राचौध—(हि. स्त्री.) तीव्र प्रकाश के कारण आँसों का अपकना, तिलमिलाहट।
 चक्राचौधी—(हि. स्त्री.) देखें 'चक्राचौध'।
 चक्राना—(हि. क्रि. अ.) चकराना, चकपकाना।
 चक्राव—(हि. पुं.) चक्रव्यूह, सेना की मण्डलाकार पंक्तियों में स्थिति; (मुहा.) —में पड़ना—चक्रर में आ पड़ना।
 चक्रार—(सं. पुं.) वर्णमाला का 'च' अक्षर।
 चक्रावल—(हि. स्त्री.) घोड़े के अगले पैर की हड्डी का उभड़ आना।
 चक्रासना—(हि. क्रि. अ.) चमकना।
 चक्रित—(सं. वि.) विस्मित, आश्चर्य में पड़ा हुआ, नींचका, चकपकाया हुआ, व्यय, फवड़ाया हुआ, नीर, कायर, ठरा हुआ, ठरपोक; (पुं. वचनित्) विस्मय, कायरता, व्यय का उर।
 चक्रितवंत—(हि. वि.) आश्चर्ययुक्त।
 चक्रिताई—(हि. स्त्री.) आश्चर्य।
 चक्रुदा—(हि. पुं.) देखें 'चक्रवर्द्ध'।
 चक्रुला—(हि. पुं.) पक्षी का छोटा बच्चा।
 चक्रुत—(हि. वि.) देखें 'चकित'।

चकेठ—(हि. पुं.) कुम्हार का चाक घुमाने का डंडा।
 चकया—(हि. स्त्री.) चकई।
 चकोटना—(हि. क्रि. स.) चुटकी से मांस नोचना, चुटकी काटना, बकोटना।
 चकोतरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का खटमीठा जंबीरी नींबू।
 चकोता—(हि. पुं.) देखें 'चकता'।
 चकोर—(हि. पुं.) एक प्रकार का बड़ा पहाड़ी तीतर जिसके विषय में यह प्रसिद्धि है कि वह चन्द्रमा को टकटकी लगाकर देखता है और अंगारा खा जाता है, एक प्रकार का सबैया छंद।
 चकोरी—(हि. स्त्री.) मादा चकोर।
 चकोह—(हि. पुं.) पानी का भँवर।
 चकोटा—(हि. पुं.) ऋण के बदले में दिया जानेवाला पशु।
 चकौध—(हि. स्त्री.) देखें 'चक्राचौध'।
 चक्रक—(हि. पुं.) चक्रवाक, चक्रवा, चाक, दिशा।
 चक्रकर—(हि. पुं.) घूमनेवाली चक्राकार कोई वस्तु, मण्डलाकार कोई पदार्थ, चाक, गोल घेरा, मण्डलाकार मार्ग, पहिये का फेरा, घेरा, घुमाव, पहिये का केन्द्र पर घूमना, जटिलता, हैरानी, सिर घूमना, मूर्छा, पानी का भँवर, व्यग्रता; (मुहा.)—काटना—इधर-उधर या गोलाई में घूमना; —खाना—भटकना; —देना—परिक्रमा करना; —मरना—इधर-उधर घूमना; —में आना—हैरान होना; —ने पड़ना—व्यग्र होना; —लगाना—परिक्रमा करना।
 चक्रकवद्ध—(हि. पुं.) चक्रवर्ती राजा।
 चक्रकवा—(हि. पुं.) देखें 'चक्रवा'।
 चक्रकव—(हि. वि.) चक्रवर्ती (राजा)।
 चक्रकस—(हि. पुं.) बुरबुर या श्येन पक्षी के बैठने का अड्डा।
 चक्रका—(हि. पुं.) पहिया, पहिये के आकार की कोई वस्तु, इँटे या पत्थर का बड़ा चिपटा टुकड़ा, जमा हुआ टुकड़ा, थक्का, बड़ा कतरा।
 चक्रकी—(हि. स्त्री.) दाल दलने या आटा पीसने का यन्त्र, जाँता, पैर के घुटने की गोल हड्डी, विजली; (क्रि. प्र.)—पीसना—चक्रकी में आटा पीसना, बहुत परिश्रम करना।
 चक्रक—(हि. पुं.) देखें 'चाकू'।
 चक्रकी—(हि. स्त्री.) गाने की चटपटी वस्तु, चाँट।
 चक्र—(सं. पुं.) पहिया, जाँता, कुम्हार का

चाक, तेल पेरने का कोलू, वर्तुलाकार कोई वस्तु, पहिये के आकार कालोहे का एक अस्त्र, जल का भँवर, वायु का भँवर, वबंडर, मण्डली, समूह, दल, सेना चक्रव्यूह, ग्राम या नगर का समूह, प्रदेश, राज्य, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फैला हुआ प्रदेश, चक्रवा पक्षी, योग के अनुसार शरीर के भीतर का एक पद्म, वृत्त, घेरा, घुमाव, दिशा, चक्रकर, मुलावा, एक वर्णवृत्त का नाम, तन्त्र-यन्त्र का कोई यन्त्र जिसमें अनेक कोण वने होते हैं।
 चक्रगुच्छ—(सं. पुं.) अशोका का वृक्ष।
 चक्रगोप्ता—(सं. पुं.) राज्यरक्षक, सेनापति।
 चक्रकर—(सं. पुं.) तेली, कुम्हार।
 चक्रतीर्थ—(सं. पुं.) भारत के दक्षिण का एक प्रसिद्ध तीर्थ, नैमिषारण्य के एक कुण्ड का नाम, मणिकर्णिका कुण्ड का नाम।
 चक्रदंड—(सं. पुं.) एक प्रकार का व्यायाम।
 चक्रदंती—(सं. स्त्री.) जमालगोट।
 चक्रदंष्ट्र—(सं. पुं.) शूकर, सूअर।
 चक्रधर, चक्रधारी—(सं. वि.) चक्र को धारण करनेवाला; (पुं.) विष्णु, श्रीकृष्ण, वाजीगर, अनेक नगरों या गाँवों का स्वामी, गाँव का पुरोहित, सर्प, एक प्रकार का राग।
 चक्रपर्णी—(सं. स्त्री.) पिठवन नामक ओषधि।
 चक्रपाणि—(सं. पुं.) हाथ में चक्र धारण करनेवाले विष्णु।
 चक्रपाद—(सं. पुं.) गाड़ी, रथ।
 चक्रपानि—(हि. पुं.) देखें 'चक्रपाणि'।
 चक्रपाल—(सं. पुं.) सूबेदार, चक्रलेदार।
 चक्रपूजा—(सं. स्त्री.) तान्त्रिकों का एक विशिष्ट प्रकार का पूजन।
 चक्रफल—(सं. पुं.) गोल फल लगा हुआ एक अस्त्र।
 चक्रबंध—(सं. पुं.) एक प्रकार का चित्र-काव्य।
 चक्रबंधु, चक्रबंधव—(सं. पुं.) सूर्य।
 चक्रभूत—(सं. पुं.) चक्र धारण करनेवाले विष्णु।
 चक्रमंडल—(सं. पुं.) एक प्रकार का नाच।
 चक्रमर्द—(हि. पुं.) देखें 'चक्रवर्द्ध'।
 चक्रमुख—(सं. पुं.) शूकर, सूअर।
 चक्रमुद्रा—(सं. स्त्री.) विष्णु के चक्र या आयुध का चिह्न जिसको वैष्णव लोग अपने अंग पर छापते हैं, तान्त्रिकों की एक श्रंगमुद्रा।
 चक्रयंत्र—(सं. पुं.) ज्योतिष का एक यन्त्र।

चक्रवर्तिनी—(सं. स्त्री.) किसी चक्र को अधिष्ठात्री ।
 चक्रवर्ती—(सं. वि.) एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक राज्य करनेवाला भूपति, सार्वभौम राजा ।
 चक्रवाक—(सं. पुं.) चक्रवा पक्षी ।
 चक्रवाकबंधु—(सं. पुं.) सूर्य ।
 चक्रवात—(सं. पुं.) चक्रकर में घूमनेवाली वेग की हवा, बवंडर ।
 चक्रवाल—(सं. पुं.) मण्डल, घेरा ।
 चक्रवृत्ति—(सं. स्त्री.) एक वर्णवृत्त का नाम ।
 चक्रवृद्धि—(सं. स्त्री.) व्याज को मूल में जोड़कर उस पर सूद लगाना ।
 चक्रव्यूह—(सं. पुं.) युद्ध के समय किसी व्यक्ति या स्थान को सुरक्षित रखने के लिये उसके चारों ओर कई घेरो में सेना स्थापित करना जिससे उसके पास सहज में शत्रु-सेना न पहुँच सके ।
 चक्रांक—(सं. पुं.) चक्रादि का वह चिह्न जो वैष्णव लोग अपने शरीर पर दगवाते हैं ।
 चक्रांकित—(सं. वि.) चक्र का चिह्न छापा या दागा हुआ ।
 चक्रांत—(सं. पुं.) गुप्त मन्त्रणा, षड्यन्त्र ।
 चक्रांश—(सं. पुं.) राशि चक्र का ३६० वाँ अंश ।
 चक्राकार—(सं. वि.) मण्डलाकार, गोल ।
 चक्राट—(सं. पुं.) वाजीगर, मदारी, सर्प का विष झाड़ने या उतारनेवाला ।
 चक्रायुध—(सं. पुं.) चक्र धारण करनेवाले विष्णु ।
 चक्रावल—(हिं. पुं.) घोड़ों के पैर का एक रोग ।
 चक्रिक—(सं. पुं.) चक्र धारण करनेवाला ।
 चक्रिका—(सं. स्त्री.) घुटने की गोल हड्डी ।
 चक्रित—(हिं. वि.) देख 'चकित' ।
 चक्री—(सं. पुं.) चक्र धारण करनेवाले विष्णु, गाँव का पुरोहित, चक्रवा पक्षी, आर्या छन्द का एक भेद, रथ पर चढ़नेवाला, कौवा, गदहा, कुम्हार, सर्प, वकरा, दूत, गुप्तचर, व्याघ्रनख नामक ओपधि, तेली, चक्रवर्ती ।
 चक्रेश्वर—(सं. पुं.) चक्रवर्ती ।
 चक्षण—(सं. पुं.) कृपादृष्टि, अनुग्रह ।
 चक्षुःश्रवा—(सं. पुं.) सर्प, साँप ।
 चक्षु—(सं. पुं.) देखने की इन्द्रिय, आँख ।
 चक्षुरिन्द्रिय—(सं. स्त्री.) चक्षु, आँख ।
 चक्षुस्पति—(सं. पुं.) सूर्य ।
 चक्षुष्य—(सं. वि.) नेत्रों के लिये हितकर (ओपधि), नेत्र संबंधी, देखने में सुन्दर, नेत्रों से उत्पन्न; (पुं.) केवड़ा, अंजन,

सुरमा, तृतिया ।
 चख—(हिं. पुं.) चक्षु, आँख, झगड़ा ।
 चखचख—(हिं. स्त्री.) झगड़ा, वकलक, कहासुनी ।
 चखचाँव—(हिं. स्त्री.) देखें 'चकाचाँव' ।
 चखना—(हिं. क्रि. स.) स्वाद लेने के लिये मुँह में डालना, स्वाद लेना, स्वाद लेते हुए खाना ।
 चखाचखी—(हिं. स्त्री.) झगड़ा, विरोध, बर ।
 चखाना—(हिं. क्रि. स.) स्वाद दिलाना, खिलाना ।
 चखिया—(हिं. वि.) झगड़ा करनेवाला, झगड़ालू ।
 चखोड़ा—(हिं. पुं.) ब्रह्मों के मस्तक पर का काला टीका जो दृष्टि न लगने के लिये लगाया जाता है, दिवौना ।
 चखौती—(हिं. स्त्री.) चटपटा स्वादिष्ट भोजन ।
 चगड़—(हिं. वि.) शूर्त, चतुर ।
 चचर—(हिं. स्त्री.) बहुत दिनों तक परती पड़ी हुई भूमि जो एक बार बोई जाती है ।
 चचा—(हिं. पुं.) पिता का भाई, पितृव्य; (मुहा.)—बनाना—अच्छी तरह बदला लेना ।
 चचिया—(हिं. वि.) चचा से संबंध रखनेवाला; —ससुर—(पुं.) पत्नी का चाचा ।
 चचौड़ा—(हिं. पुं.) एक प्रकार की लता जिसके फलों की तरकारी खाई जाती है, अपामार्ग, चिचड़ा ।
 चची—(हिं. स्त्री.) चाचा की स्त्री ।
 चचेरा—(हिं. वि.) चाचा से उत्पन्न, चाचा-संबंधी ।
 चचोड़ना—(हिं. क्रि. स.) दाँतों से दवाकर चूसना ।
 चचोड़वाना—(हिं. क्रि. स.) दवाकर चूसने देना ।
 चच्छु—(हिं. पुं.) देखें 'चक्षु' ।
 चट—(हिं. अव्य.) शीघ्र, जल्दी से, झटपट, तुरत; (पुं.) घव्वा, कलंक, दोष, धाव, चकोता; (स्त्री.) चटचट का शब्द; (वि.) चाट-पीछकर कुल साया हुआ; —चट—(पुं.) चट-चट का शब्द; (मुहा.) —कर जाना—सब खा जाना, कुछ न छोड़ना, दूसरे की वस्तु अपहरण करना ।
 चटक—(सं. पुं.) गौरैया पक्षी, चिड़ा; (स्त्री.) चमक, चटकीलापन, जल्दी, शीघ्रता; (अव्य.) झटपट, शीघ्रता से, तुरत; (वि.) तीक्ष्ण स्वाद, चटपटा, चरपरा, चमकीला, गहरे रंग का ।
 चटकई—(हिं. स्त्री.) शीघ्रता, तीघ्रता ।
 चटकदार—(हिं. वि.) चटकीला, मड़कीला ।

चटकन—(हिं. पुं.) टूटने का शब्द, तमाचा ।
 चटकना—(हिं. क्रि. अ.) चट् शब्द करके टूटना, हलकी चोट से टूट जाना, तड़कना, चिड़चिड़ाना, झुंझलाना, सल्लगाना, धूप से लकड़ी आदि में दरार पड़ना, उँगलियों को फोड़ना, चट चट शब्द करना, कलियों का फूटना, अनवन होना, खटकना; (पुं.) धपड़ ।
 चटकनी—(हिं. स्त्री.) किवाड़ बन्द करने की सिटकिनी ।
 चटक-मटक—(हिं. स्त्री.) आकर्षक वेशभूषा, आडम्बर, सिंगार, ठसक, चमक-दमक ।
 चटकवाही—(हिं. स्त्री.) जल्दी ।
 चटका—(हिं. पुं.) शीघ्रता, जल्दी, घव्वा, चटपटा स्वाद ।
 चटकाना—(हिं. क्रि. अ.) तोड़ना, उँगलियाँ फोड़ना, अलग करना, दूर करना, कुपित करना, चिढ़ाना; (मुहा.) जूतियाँ चटकाना—जूता घसीटते फिरना, मारे-मारे फिरना, दरिद्र हो जाने पर नगर की सड़क पर पैदल चलना ।
 चटकारा—(हिं. वि.) चमकीला, चटकीला, चंचल, तीक्ष्ण; (पुं.) स्वादिष्ट वस्तु को खाते समय तालु से जीम लगने का शब्द ।
 चटकारी—(हिं. स्त्री.) चुटकी ।
 चटकाली—(हिं. स्त्री.) गौरैया पक्षियों का झुण्ड, पक्षियों की पंक्ति ।
 चटकाहट—(सं. स्त्री.) चटकने या टूटने का शब्द, फलियों के चटकने का शब्द ।
 चटकी—(हिं. स्त्री.) बलबल की तरह की एक चिड़िया, चोड़े मुँह की गगरी ।
 चटकीला—(हिं. वि.) मड़कीला, चमकीला, गहरे रंग का, चमकदार, चरपरा, चटपटा ।
 चटकीलापन—(हिं. पुं.) चमक-दमक, ठसक ।
 चटखना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'चटकना' ।
 चटखनी—(हिं. स्त्री.) चटकनी, सिटकिनी ।
 चटचट—(हिं. पुं.) चटकने या टूटने का शब्द, अंगुली फोड़ने का शब्द; (अव्य.) जल्दी से, चटपट ।
 चटचटाना—(हिं. क्रि. अ.) चट चट शब्द करते हुए टूटना, गँठिली लकड़ी या कोयले का चट चट शब्द करते हुए जलना ।
 चटचेटक—(हिं. पुं.) इन्द्रजाल, जादू ।
 चटनी—(हिं. स्त्री.) चाटने की वस्तु, अवलेह, भोजन का स्वाद बढ़ानेवाली खाद्य वस्तु; (पुं.) ब्रह्मों के चूसने का खिलौना; (मुहा.) —करना—पीसकर महीन (बारीक) करना ।
 चटपट—(हिं. अव्य.) शीघ्र, जल्दी, झट-

पट, तुरन्त ।

चटपटा—(हि.वि.) तीव्र स्वाद का, चरपरा ।

चटपटाना—(हि.क्रि.अ.) शीघ्रता करना, हड़बड़ाना ।

चटपटी—(हि.स्त्री.) आतुरता, उतावलापन, शीघ्रता, व्यग्रता, घबराहट, बेचैनी ।

चटरी—(हि.स्त्री.) एक मोटा अन्न, लतरी ।

चटवाना—(हि.क्रि.अ.) चाटने में प्रवृत्त करना, चटाना ।

चटशाला, चटसार(ल)—(हि.स्त्री.)

बच्चों को पढ़ाने की पाठशाला ।

चटाई—(हि.स्त्री.) तृण, बांस की सीक, ताड़ के पत्ते आदि का बना हुआ विछावन, सायरी, चाटने की क्रिया ।

चटाक(स)—(हि.पुं.) टूटने-फूटने का शब्द;

दाग, बध्वा;—पटाक—(अव्य.) तुरन्त ।

चटाका(सा)—(हि.पुं.) लकड़ी या किसी कड़ी वस्तु के टूटने का शब्द ।

चटाचट—(हि.स्त्री.) किसी वस्तु के टूटने का शब्द ।

चटान—(हि.स्त्री.) देखें 'चटान' ।

चटाना—(हि.क्रि.अ.) चटाने का काम कराना, थोड़ा-थोड़ा करके किसी के मुँह में डालना, घूस देना, तलवार, छुरी आदि पर सान देना ।

चटापटी—(हि.स्त्री.) जल्दी, शीघ्रता ।

चटावन—(हि.पुं.) बच्चों को प्रथम बार अन्न चटाने का संस्कार, अन्नप्राशन ।

चटिक—(हि.अव्य.) चटपट, उसी क्षण ।

चटियल—(हि.वि.) विलकुल सपाट, वृक्ष-भूय (मैदान), निचाट ।

चटो—(हि.स्त्री.) चटसार, बच्चों की पाठशाला ।

चट्ट—(सं.पुं.) प्रिय वाक्य ।

चट्टक—(हि.वि.) चपल, चंचल, सुन्दर, मनोहर, प्रियदर्शन ।

चट्टकार—(सं.वि.) सुयामदी ।

चट्टल—(हि.वि.) चंचल ।

चट्टना—(सं.स्त्री.) विजली ।

चट्टोरा—(हि.वि.) अच्छी-अच्छी वस्तुएँ गाने का लालची, लोनी, लोलुप ।

चट्टोरापन—(हि.पुं.) अच्छे पदार्थ खाने की शोषुपता ।

चट्ट—(हि.वि.) चाट-मोंछकर गया हुआ, समाप्त, लुप्त, गायब ।

चट्टा—(हि.पुं.) मिव्य, चेला, बांस की चट्टा, गुला मैदान जिसमें वृक्ष न हों, मरीच पर का चपौता, डेर, राति, समूह ।

चट्टान—(हि.स्त्री.) पत्थर का बड़ा टुकड़ा, गिला-नाच, कोई शीघ्रकाय पदार्थ ।

चट्टा-चट्टा—(हि.पुं.) लड़कों के खेलने के खिलाने आदि का समूह, बाजीगर के थैले में की विविध सामग्रियाँ; (मुहा.) एक ही थली के चट्टे-चट्टे—एक ही प्रकृति के मनुष्य; चट्ट-चट्टे लड़ाना—आपस में लड़ाने की बात करना, चुटकुला छोड़ना ।

चट्टी—(हि.स्त्री.) टिकान, पड़ाव, चप्पल, स्लिपर, घाटा, टोटा, हानि ।

चट्ट—(हि.वि.) चटोरा; (पुं.) पत्थर का बड़ा खरल ।

चड़चड़—(हि.पुं.) सूखी लकड़ी के टूटने का शब्द ।

चड़बड़—(हि.स्त्री.) निरर्थक बकवाद ।

चड़डा—(हि.वि.) मूर्ख; (पुं.) जाँघ का ऊपरी भाग ।

चड़डी—(हि.स्त्री.) एक प्रकार का लड़कों का खेल ।

चड़त—(हि.स्त्री.) देवता को चढ़ाई हुई वस्तु, चढ़ावा ।

चड़ता—(हि.वि.) (स्त्री. चड़ती) ऊपर की उभड़ा हुआ, आगे की बढ़ता हुआ ।

चड़न—(हि.स्त्री.) चढ़ने की क्रिया ।

चड़ना—(हि.क्रि.अ.) नीचे से ऊपर को जाना, ऊपर उठना, ऊपर की ओर जाना, उड़ना, बढ़ना, उन्नति करना, एक वस्तु के ऊपर दूसरे का सटना, नदी में बाढ़ आना, चढ़ाई करना, दल बाँधकर जाना, गाने में स्वर का ऊँचा होना, बहाव के विरुद्ध जाना, देवता या महात्मा को भेंट देना, ऊँट, हाथी, घोड़ा आदि पर सवार होना, वर्ष, मास आदि का आरम्भ होना, ऋणी होना, वही-खाते में लिखना, बुरा प्रभाव होना, पकाने के लिये आँच पर रखना, लेप होना; (मुहा.) दिन चड़ना—दिन का प्रकाश फैलना, गर्म-धारण करना; चड़-चड़कर होना—श्रेष्ठ होना; चढ़ा-चढ़ा—अधिक श्रेष्ठ; नस चड़ना—शरीर की किसी नस का स्थान से हट जाना; पाप चड़ना—पाप से बुद्धि नष्ट होना; चड़ बैठना—सवार होना ।

चड़वाना—(हि.क्रि.अ.) चढ़ने का काम दूसरे से कराना ।

चड़ाई—(हि.स्त्री.) चढ़ने की क्रिया, ऊपर का चढ़ाव, आक्रमण, देवता को भेंट चढ़ाने की क्रिया ।

चड़ा-उतरी—(हि.स्त्री.) बारबार चढ़ने-उतरने की क्रिया ।

चड़ा-उपरी—(हि.स्त्री.) एक दूसरे से चढ़ने का उद्योग, लाग-डाट ।

चड़ाचड़ी—(हि.स्त्री.) चढ़ा-उपरी, लागडाट ।

चड़ाना—(हि.क्रि.अ.) नीचे से ऊपर को ले जाना, ऊँचाई पर पहुँचाना, चढ़ने का काम करवाना, ऊपर की ओर समेटना, चढ़ाई करने को प्रेरित करना, मूल्य बढ़ाना, सुर ऊँचा करना, देवता को अर्पण करवाना, सवार होना, पी जाना, पुस्तक में लिखना, ऋणी ठहराना, पकने के लिये आँच पर रखना, मढ़ना ।

चड़ानी—(हि.स्त्री.) ऊपर की ओर उठता हुआ तल ।

चड़ाव—(हि.पुं.) चढ़ने की क्रिया या भाव, वृद्धि, दुलहिन को विवाह के दिन पहिनाया हुआ ससुराल का गहना, वह दिशा जिधरसे नदी की धारा आई हो;—उतार—(पुं.) ऊँचा-नीचा स्थान, गाबदुम आकृति ।

चड़ावा—(हि.पुं.) वर की ओर से कन्या को विवाह के दिन पहिनाया हुआ गहना, देवता को अर्पण करने की सामग्री, पुजापा, बढ़ावा, उत्साह; (मुहा.)—देना—प्रोत्साहित करना, उसकाना ।

चड़त—(हि.पुं.) चढ़नेवाला, सवार होनेवाला ।

चड़ोवाँ—(हि.वि.) उठी हुई ँड़ी का जूता ।

चणक—(सं.पुं.) चना ।

चणकात्मज—(सं.पुं.) चाणक्य ।

चतुरंग—(सं.पुं.) एक प्रकार का चलता गाना, चतुरंगिणी सेना का अधिपति; सेना के चार अंग; यथा—हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल, शतरंज का खेल ।

चतुरंगिणी—(सं.वि.) जिस सेना में हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक हों ।

चतुरंगिनी—(हि.स्त्री.) देखें 'चतुरंगिणी' ।

चतुरंता—(सं.स्त्री.) पृथ्वी, मेदिनी ।

चतुर—(सं.वि.) टेढ़ी चाल चलनेवाला, वक्रगामी, फुरतीला, प्रवीण, आलस्यरहित, निपुण, धूर्त; (पुं.) शृंगार रस का एक नायक जो अपनी चतुराई से प्रेमिका से संभोग का साधन करता है ।

चतुरई—(हि.स्त्री.) चतुरता, चतुराई;—तौलना—कपट व्यवहार करना ।

चतुरता—(सं.स्त्री.) चतुराई, प्रवीणता ।

चतुरनीक—(हि.पुं.) चतुरानन, ब्रह्मा ।

चतुरपन—(हि.पुं.) चतुराई, चतुरता ।

चतुरभुज—(हि.पुं.) देखें 'चतुर्भुज' ।

चतुरमास—(हि.पुं.) देखें 'चतुर्मास' ।

चतुरमुख—(हि.वि.) देखें 'चतुर्मुख' ।

चतुरशीति—(सं.वि.) चौरासी (संख्या) ।

चतुरथ—(सं.वि.) चौकोर, चतुष्कोण ।

चतुरह—(सं.पुं.) चार दिन में समाप्त होनेवाला व्रत ।

चतुरा—(सं.वि.स्त्री.) चतुर, प्रवीण, वृत्त ।
 चतुराई—(हिं. स्त्री.) निपुणता, धूर्तता ।
 चतुरात्मा—(सं. पुं.) ईश्वर, विष्णु ।
 चतुरानन—(सं. पुं.) चार मुखवाले ब्रह्मा ।
 चतुरापन—(हिं. पुं.) निपुणता, चतुराई ।
 चतुरिन्द्रिय—(सं.पुं.) चार इन्द्रियोंवाले जीव ।
 चतुर्गुण—(सं.वि.) चौगुना, चार गुणोंवाला ।
 चतुर्गवति—(सं.स्त्री.) चौरानवे की संख्या ।
 चतुर्थ—(सं. वि.) चौथा, चौथी संख्या का ।
 चतुर्थक—(पं.) चौथे दिन आनेवाला ज्वर ।
 चतुर्थांश—(सं. पुं.) चौथाई भाग, चार अंशों में से एक अंश ।
 चतुर्थांशम—(सं. पुं.) संन्यास ।
 चतुर्थी—(सं. स्त्री.) महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि, चौथ, विवाह के चौथे दिन होनेवाला संस्कार ।
 चतुर्दत—(सं. पुं.) ऐरावत, हाथी ।
 चतुर्दश—(सं.पुं.) चौदह; (वि.) चौदहवाँ ।
 चतुर्दशी—(सं. स्त्री.) महीने के किसी पक्ष की चौदहवीं तिथि, चौदस ।
 चतुर्दिक—(सं. स्त्री.) चारों दिशाएँ; (अव्य.) चारो ओर ।
 चतुर्दिश—(सं.पुं, अव्य.) देखें 'चतुर्दिक' ।
 चतुर्दोल—(सं. पुं.) चार कहारों से ढोयी जानेवाली सवारी ।
 चतुर्धाम—(सं. पुं.) चारों मुख्य तीर्थ—जगन्नाथ पुरी, द्वारका, बदरिकाश्रम और रामेश्वरम् ।
 चतुर्वाह—(सं.पुं.) शिव, महादेव, विष्णु ।
 चतुर्भद्र—(सं. पुं.) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों का समुदाय ।
 चतुर्भुज—(सं. वि.) चार भुजाओंवाला; (पुं.) विष्णु, वह क्षेत्र या आकृति जिसमें चार भुजाएँ और चार कोण हों ।
 चतुर्भुजा—(सं. स्त्री.) गायत्री-रूप-वारिणी देवी ।
 चतुर्भुजी—(हिं. पुं.) एक वैष्णव सम्प्रदाय का नाम ।
 चतुर्मास—(सं. पुं.) चातुर्मास, वरसात के चार महीने—असाढ़, सावन, भादों और कुआर ।
 चतुर्मुख—(सं.वि.) चार मुखोंवाला; (पुं.) ब्रह्मा; (अव्य.) चारो ओर ।
 चतुर्गुणी—(सं. स्त्री.) चारों गुणों का समय, चौकड़ी ।
 चतुर्वक्त्र—(सं. पुं.) चार मुखवाले ब्रह्मा ।
 चतुर्वर्ष—(सं.पुं.) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ।
 चतुर्वर्ण—(सं. पुं.) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ।
 चतुर्वाही—(सं. पुं.) चार घोड़ों की गाड़ी,

चौकड़ी ।
 चतुर्विंश—(सं. वि.) चौबीसवाँ ।
 चतुर्विंशति—(सं. स्त्री.) चौबीस ।
 चतुर्विद्या—(सं.स्त्री.) चारो वेदों की विद्या ।
 चतुर्वीर—(सं.पुं.) चार दिनों में होनेवाला एक यज्ञ ।
 चतुर्वेद—(सं.पुं.) ईश्वर, परमेश्वर, चारों वेद ।
 चतुर्वेदी—(सं.वि.) चारों वेदों का जाननेवाला; (पुं.) ब्राह्मणों की एक पदवी ।
 चतुर्व्यूह—(सं. पुं.) चार मनुष्यों या पदार्थों का समुच्चय, विष्णु, योगशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, (वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ।)
 चतुष्क—(सं. वि.) चौपहल; (पुं.) एक प्रकार का गृह, चौक ।
 चतुष्कर—(सं. पुं.) पंजवाला पशु ।
 चतुष्कल—(सं.वि.) जिसमें चार कलाएँ हों ।
 चतुष्की—(सं. स्त्री.) चौकी, मसहरी ।
 चतुष्कोण—(सं. वि.) चार कोणवाला, चौकोना, (पुं.) जिस आकृति में चार कोण हों ।
 चतुष्पट—(सं. पुं.) चार की संख्या, चार पदार्थों का समुदाय ।
 चतुष्पटोम—(सं. पुं.) अश्वमेध यज्ञ का एक अंग ।
 चतुष्पथ—(सं. पुं.) चौराहा, चौमुहानी ।
 चतुष्पद—(सं. पुं.) चार पैरोंवाला पशु, चौपाया; (वि.) चार पैरोंवाला ।
 चतुष्पदा—(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में तीस मात्राएँ होती हैं ।
 चतुष्पदी—(सं. स्त्री.) चौपाई छन्द जिसके प्रत्येक चरण में पंद्रह मात्राएँ होती हैं तथा अन्त में गुरु वर्ण होता है, चार पदों का एक गीत ।
 चतुष्पाठी—(सं. स्त्री.) विद्याधियों के पहने का स्थान, पाठशाला ।
 चतुष्पाणि—(सं. वि., पुं.) चार हाथ वाले (नारायण) ।
 चतुष्फल—(सं. वि.) चौपहला ।
 चतुस्सीमा—(सं. स्त्री.) चौहद्दी, चारों ओर की सीमा ।
 चत्वर—(सं. पुं.) चौमुहानी, चौरास्ता, चतुरा, यज्ञ के लिये स्वच्छ किया हुआ स्थान, वेदी, आँगन ।
 चत्वाल—(सं. पुं.) होमकुण्ड, वेदी, चत्वर ।
 चदरा—(हिं. पुं.) देखें 'चादर' ।
 चदिर—(सं.पुं.) चन्द्रमा, कपूर, सर्प, हाथी ।
 चद्दर—(हिं. स्त्री.) देखें 'चादर', किसी धातु की लंबी-चौड़ी पत्तर, ऊपर से गिरनेवाली पानी की चौड़ी धारा ।

चनक—(हिं. पुं.) चणक, चना ।
 चनकट—(हिं. स्त्री.) तमाचा, थप्पड़ ।
 चनकना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'चिटकना' ।
 चनखना—(हिं. क्रि. अ.) रुष्ट होना, चिड़ना, चिटकना ।
 चनन—(हिं. पुं.) देखें 'चंदन' ।
 चनवर—(हिं. पुं.) ग्रास, कवर ।
 चनसित—(सं. पुं.) महान्, श्रेष्ठ ।
 चना—(हिं. पुं.) चणक, वूट, रहिला; (मुहा.) नाकों चने चववाना—बहुत व्यग्र करना, बड़ा कष्ट देना; लोहे का चना—अत्यन्त दुष्कर काम; लोहे का चना चवाना—बड़ा कठिन काम करना ।
 चनाधार—(हिं.पुं.) चने की पत्तियों और डंठल में से निकाला हुआ धार ।
 चनार—(हिं. पुं.) एक बड़ा पहाड़ी वृक्ष जिसकी पुष्ट लकड़ी घर बनाने के काम में लाई जाती है ।
 चनियारी—(हिं. पुं.) सुन्दर परोंवाला एक जलपक्षी ।
 चनोरी—(हिं. स्त्री.) सफेद रोएँ की भेंड़ ।
 चपकन—(हिं.स्त्री.) अंगा, अँगारवा, किवाड़ या संदूक में ताला बन्द करने की कड़ी ।
 चपकना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'चिपकना' ।
 चपकाना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'चिपकाना' ।
 चपट—(हिं. पुं.) तमाचा, चपत ।
 चपटना—(हिं. क्रि. अ.) चिपकना, चिमटना ।
 चपटा—(हिं. वि.) चिपटा ।
 चपटाना—(हिं. क्रि. स.) चिपकाना, चिमटाना ।
 चपटी—(हिं. वि. स्त्री.) चिपटी; (स्त्री.) ताली थपोड़ी ।
 चपड़गट्ट—(हिं. वि.) आपदग्रस्त ।
 चपड़-चपड़—(हिं. स्त्री.) जीम से चट चट करने का शब्द ।
 चपड़ा—(हिं.पुं.) शीवी हुई लाह का पत्तर, लाल रंग का एक कीड़ा ।
 चपड़ी—(हिं. स्त्री.) पटिया ।
 चपत—(हिं.स्त्री.) थप्पड़, तमाचा, घसका, हानि, नुकसान; (मुहा.)—बैठना या लगना—हानि या नुकसान होना ।
 चपना—(हिं. क्रि. अ.) दबना, कुचल जाना, लज्जित होना, सिर नीचा होना, नष्ट होना, चौपट होना ।
 चपनी—(हिं.स्त्री.) छोटी छिछली कटोरी, दरियाई नारियल का कमण्डल हाँड़ी का हकन, घुटने की हड्डी, चक्की ।
 चपरगट्ट—(हिं. वि.) दुर्भाग्य, अभाग्य, उलझा हुआ ।
 चपरना—(हिं. क्रि. अ. स.) आपस में मिलना या गिलाना, चुपटना, सानना ।

चपरा—(हि. अव्य.) तुरत, अटपट, (पुं.)
 देनों 'चपड़ा'; (वि.) झूठा ।
 चपराना—(हि. क्रि. म.) चपरना ।
 चपरान्त—(हि. स्त्री.) पेटी या परतले में
 लगाने की पट्टी, मुलुम्मा करने की कलम,
 मलमल का एक व्यायाम, आरी का
 दाहिने-बायें झुकाव ।
 चपरानी—(हि.पुं.) निपाही, अर्दली, प्यादा ।
 चपरि—(हि. अव्य.) शीघ्रता से, जल्दी से ।
 चपरी—(हि. स्त्री.) एक कदम, खेसारी ।
 चपल—(सं. वि.) चंचल, बहुत हिलने-
 टोलनेवाला, चतुर, चुलबुला, क्षणिक,
 अनिश्चय साधने में तत्पर; (पुं.) पारा,
 पपीहा, एक प्रकार का चूहा ।
 चपलता—(सं.स्त्री.) चंचलता, उतावला-
 पन, घुटता ।
 चपलत्व—(सं. पुं.) चपलता, चंचलता ।
 चपला—(सं.वि.स्त्री.) चपल; (स्त्री.)
 मदिरा, विजली, पुंश्चली, जीम, मांग,
 लट्ठी. धार्या छन्द का एक भेद ।
 चपलाई—(हि. स्त्री.) चपलता, चंचलता ।
 चपलाना—(हि. क्रि. अ., स.) हिलना,
 झेलना, चलना, हिलाना ।
 चपवाना—(हि. क्रि. स.) दबवाना ।
 चपाट—(हि. पुं.) चौरस तले का जूता
 जिमकी एड़ी उठी न हो ।
 चपाती—(हि. स्त्री.) हाथ से बेलकर
 बनाई हुई रोटी ।
 चपाना—(हि.क्रि.स.) दबाने का काम दूसरे
 से कराना, दबवाना, फेंमाना, जोड़ना,
 लज्जित करना ।
 चपेट—(हि. स्त्री.) रगड़, घस्ना, आघात,
 झोंका, दबाव, थपड़, संकट ।
 चपेटना—(हि.क्रि.स.) दबाना, रगड़ा देना,
 मारने-पीटने हुए हटाना, फटकारना ।
 चपेटा—(हि. पुं.) देनों 'चपेट' ।
 चपेटी—(हि. स्त्री.) भादों सुदी छठ ।
 चपेरना—(हि. क्रि.स.) दबाना, चापना ।
 चपौटी—(हि. स्त्री.) सिर में चिपकी हुई
 छोटी टोपी ।
 चपौर—(हि. पुं.) चपाट जूता ।
 चप्पड़—(हि. पुं.) देवों 'चिपड़' ।
 चप्पन—(हि. पुं.) नीची धारी का छोटा
 बटोरा ।
 चप्पल—(हि. पुं.) चिपटी एड़ी का जूता,
 कड़ा जूता जिममें एड़ी न हो ।
 चप्पा—(हि. पुं.) चतुर्धा, चौधारे भाग,
 धौंस भाग, याज्ञ दवान ।
 चप्पी—(हि. स्त्री.) हाथ-पैर दबाने की सेवा ।
 चप्प—(हि. पुं.) चौड़े पट्टे का टांवा,

किलवारी ।
 चक्क—(हि. स्त्री.) पीड़ा, टीस; (वि.)
 टरपोक ।
 चक्कना—(हि.क्रि.अ.) टीसना, चिलकना ।
 चक्काना—(हि. क्रि. स.) चवाने का काम
 कराना ।
 चक्काना—(हि.क्रि.स.) दांतों से कुचलना,
 दांत से काटना, कूचना; (मुहा.) चक्का
 चक्कर वातें करना—धीरे-धीरे रक-
 रककर बोलना; चक्के को चक्काना—बार-
 बार एक ही काम को करना ।
 चक्कारा—(हि. पुं.) घर के ऊपर का कमरा,
 चौवारा ।
 चक्कतरा—(हि. पुं.) चौरस ऊंचा स्थान,
 बड़ा थाना, कोतवाली ।
 चक्कना, चक्कना—(हि. पुं.) सूखा मुना हुआ
 अन्न, चक्कण, मूजा ।
 चक्कनी, चक्कनी—(हि. स्त्री.) जलपान की
 सामग्री, मजदूरों का दोपहर का कलेवा ।
 चक्कू, चक्कू—(हि. वि.) अधिक भोजन
 करनेवाला ।
 चक्क—(हि. पुं.) किसी वस्तु का पानी में
 गिरने का शब्द, डंक मारने की क्रिया ।
 चक्कना—(हि. क्रि. स.) पेट भर खाना,
 डटकर खाना ।
 चक्कड़-चक्कड़—(हि. स्त्री.) खाते समय मुख
 से निकलने का शब्द ।
 चक्काना—(हि. क्रि. स.) भोजन कराना,
 खिलाना ।
 चक्कक—(हि. वि.) मूर्ख, निर्द्वि ।
 चक्ककरना—(हि. क्रि. स.) गीता देना,
 डुवाना, भिगाना ।
 चक्कक—(हि. स्त्री.) प्रकाश, ज्योति,
 आभा, दीप्ति, कान्ति, झलक, लचक,
 शरीर के किसी अंग की पेशियों में
 अटके आदि से एकाएक दर्द होना ।
 चक्कक-चांदनी—(हि. स्त्री.) बनी-ठनी
 दुश्चरित्रा स्त्री ।
 चक्कक-दमक—(हि. स्त्री.) दीप्ति, झलक,
 तड़क-मड़क, ठट्ठाट ।
 चक्ककदार—(हि.वि.) चमकीला, भड़कीला ।
 चक्ककना—(हि. क्रि. अ.) दीप्तियुक्त देव
 पड़ना, प्रकाशित होना, कान्तियुक्त
 होना, दमकना, जगमगाना, भड़कीला
 होना, प्रसिद्ध होना, कीर्ति प्राप्त करना,
 उन्नति करना, समृद्ध होना, चाँकना,
 भड़क उठना, जल्दी से निकल भागना,
 भड़कना, अटके आदि से भ्राम-भेगी में
 एकाएक पीड़ा उत्पन्न होना, हाथमाव
 दिगमलना, भड़कना ।

चमकनी—(हि. वि. स्त्री.) जल्दी से चिड़
 जानेवाली ।
 चमकवाना—(हि. क्रि. स.) चमकाने का
 काम दूसरे से कराना ।
 चमकाना—(हि. क्रि. स.) चमकीला करना,
 चमक लाना, उज्ज्वल करना, निर्मल
 करना, चिढ़ाना, चाँकाना, भड़काना,
 भटकाना ।
 चमकारा—(हि. पुं.) चमक, प्रकाश ।
 चमकारी—(हि. स्त्री.) चमक, प्रकाश ।
 चमकी—(हि. स्त्री.) कारचोवी में लगाने
 के छोटे-छोटे चिपटे गोल बूटे, सितारा ।
 चमकीला—(हि. वि.) चमकदार, चमकने-
 वाला, भड़कीला ।
 चमकौवल—(हि.स्त्री.) चमकने या भटकने
 की क्रिया, भटकौवल ।
 चमकौकी—(हि. स्त्री.) चमकनेवाली स्त्री,
 निर्लज्ज चंचल स्त्री, कुलटा, पुंश्चली,
 झगडालू स्त्री, जल्दी से चिड़नेवाली स्त्री ।
 चमगादड़—(हि. पुं.) एक उड़नेवाला जन्तु
 जिसकी आकृति चूहे के समान होती है ।
 (इसके कान होते हैं और यह बच्चा देता
 है । इसका पर झिल्लीदार होता है ।)
 चमचम—(हि. पुं.) छेने की एक बंगला
 मिठाई; (अव्य.) चमाचम ।
 चमचमाना—(हि. क्रि. अ., स.) चम-
 काना, प्रकाशित होना, चमक लाना,
 झलकाना ।
 चमचिच्चिड़—(हि. वि.) किलनी की
 तरह चमड़े में चिपटनेवाला, पीछा न
 छोड़नेवाला ।
 चमची—(हि. स्त्री.) छोटा चिमच, आचमनी
 चमजूई, जोई—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की
 बहुत छोटी किलनी, चिमटनेवाली वस्तु ।
 चमटना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'चिमटना' ।
 चमटा—(हि. पुं.) देखें 'चिमटा' ।
 चमड़ा—(हि.पुं.) शरीर का बाहरी आवरण
 चर्म, त्वचा, खाल, छाल, छिलक; (मुहा.),
 -छींचना या उधेड़ना—शरीर में से
 चमड़ा अलगाना, बहुत मार मारना;
 -सिझाना—उवालकर चमड़ा मृदु करना ।
 चमड़ी—(हि. स्त्री.) त्वचा, चमड़ा, खाल ।
 चमत्करण—(सं. पुं.) चमत्कृत करने का
 कोई अद्भुत काम करने का भाव या
 स्थिति, विस्मयीकरण ।
 चमत्कार—(सं. पुं.) आश्चर्य, आश्चर्य का
 विषय, विस्मय, अद्भुत व्यापार, विचित्र
 घटना, विचित्रता, अनुठापन, विलक्षणता ।
 चमत्कारक—(सं. वि.) आश्चर्यजनक, अनुठा।
 चमत्कारी—(सं. वि.) विलक्षण, अद्भुत,

आश्चर्य उत्पन्न करनेवाला ।
 चर्मकृत- (सं. वि.) आश्चर्ययुक्त, विस्मित ।
 चर्मकृति- (सं. स्त्री.) आश्चर्य, अनूठापन ।
 चमन- (फा. पुं.) फुलवारी, हरा-भरा मैदान ।
 चमर- (सं. पुं.) सुरागाय, सुरागाय की पूँछ का बना हुआ चँवर ।
 चमरख- (हिं. स्त्री.) चमड़े की चकती जिसमें से होकर चरखे का टेक़ुआ घूमता है; (वि. स्त्री.) दुवली-पतली ।
 चमरशिखा- (हिं. स्त्री.) घोड़े की कलंगी ।
 चमरस- (हिं. पुं.) चमड़े या त्वचा पर रगड़ से उत्पन्न धाव ।
 चमरी- (सं. स्त्री.) सुरागाय, चँवरी ।
 चमरीट- (हिं. पुं.) कृपि-फल का अंश जो चमारों को मजदूरी में दिया जाता है ।
 चमरीटी- (हिं. स्त्री.) चमारों की बस्ती या गाँव ।
 चमरीघा- (हिं. पुं.) देखें 'चमौवा' ।
 चमला- (हिं. पुं.) भौख माँगने का खप्पर ।
 चमस- (सं. पुं.) लकड़ी का चम्मच के आकार का एक यज्ञपात्र, चम्मच, उर्द का आटा, घुआँस, एक ऋषि का नाम ।
 चमसा- (हिं. पुं.) चमचा, चम्मच ।
 चमाऊ- (हिं. पुं.) चामर, चँवर, चमर ।
 चमाक- (हिं. पुं.) प्रकाश, चमक ।
 चमाचम- (हिं. वि.) झलकता हुआ, उज्ज्वल, कान्तियुक्त; (अव्य.) चमक के साथ ।
 चमार- (हिं. पुं.) चर्मकार, चमड़े का काम करनेवाला, अन्त्यज ।
 चमार-चौदस- (हिं. पुं.) चमारों का उत्सव ।
 चमारिन, चमाइन- (हिं. स्त्री.) चमार की स्त्री ।
 चमारी- (हिं. स्त्री.) चमार की स्त्री, चमार का व्यवसाय ।
 चमीकर- (सं. पुं.) वह खान जिसमें से सोना निकलता है ।
 चमू- (सं. पुं.) सेना, वह सेना जिसमें ७२९ हाथी, ७२९ रथ, २१८७ घोड़-सवार और ३६४५ पदल सिपाही रहते थे; -चर- (पुं.) सेनापति; -हर- (पुं.) शिव, महादेव ।
 चमेलिया- (हिं. वि.) चमेली के रंग का ।
 चमेली- (हिं. स्त्री.) एक लता जिसमें सुगन्धित श्वेत पुष्प (फूल) होता है, इस लता का फूल, जाति पुष्प; -का तेल- (पुं.) चमेली के फलों से सुगन्धित किया हुआ तिल का तेल ।
 चमोटा- (हिं. पुं.) मोटे चमड़े का छोटा टुकड़ा जिस पर नाई छुरे की धार तेज

करते हैं ।
 चमोटी- (हिं. स्त्री.) कोड़ा, चाबुक, पतली छड़ी, बेंत, कमची, छोटा चमोटा ।
 चमोवा- (हिं. पुं.) जूता जिसका तल्ला कच्चे चमड़े से सिला हो, चमरोवा जूता ।
 चय- (सं. पुं.) ढेर, समूह, राशि, टीला, घुस्स, गढ़, कोट, प्राकार, नीवँ, चौकी, चवूतरा, ऊँचा स्थान ।
 चयन- (सं. पुं.) संग्रह, संचय, चुनने का कार्य, चुनाई, यज्ञ के लिये अग्नि का संस्कार; -शील- (वि.) संग्रही ।
 चयनिका- (सं. स्त्री.) चुने हुए पद्यों, कहानियों, निबंधों आदि का संग्रह ।
 चयनीय- (सं. वि.) चयन करने योग्य ।
 चर- (सं. पुं.) गूढ़ पुरुष, मेदिया, चलने-वाला, खंजन पक्षी, कौड़ी, मंगल ग्रह, पासे का जुआ, कीचड़, दलदल, नदी के बीच में वाला का बना हुआ टापू, रेता, नदी के बहाव से बहकर आई हुई मिट्टी; (वि.) अस्थिर, जंगम, आप से आप चलने-वाला, आहार करनेवाला, खानेवाला; (हिं. पुं.) कपड़े के फटने का शब्द ।
 चरई- (हिं. स्त्री.) चौपायों को चारा-पानी देने का गड्डा ।
 चरक- (सं. पुं.) गुप्तचर, मेदिया, दूत, आयुर्वेद के एक प्रधान आचार्य, पथिक, वटोही, मिश्रक, मिश्रमंगा, श्वेतकुण्ड; -संहिता- (स्त्री.) चरकमुनि का बनाया हुआ चिकित्सा-ग्रंथ ।
 चरकटा- (हिं. पुं.) हाथी या अँट के लिये चारा काटनेवाला, तुच्छ मनुष्य ।
 चरकना- (हिं. क्रि. अ.) टूटना-फूटना ।
 चरका- (हिं. पुं.) हलका धाव, जल्म, गरम धातु से दागने का निशान ।
 चरकाह- (हिं. पुं.) (लकड़ी) जिसमें चौर हो ।
 चरख- (फा. पुं.) चरखी, धिरनी, चाक, चरखा ।
 चरखपूजा- (हिं. स्त्री.) चँव की संक्रान्ति को की जाने वाली एक पूजा ।
 चरखा- (हिं. पुं.) गोल घूमनेवाला चक्कर, ऊन, कपास या रेशम कातकर सूत निकालने का यन्त्र, कुएँ से पानी निकालने का रहट, सोना-चाँदी का तार खींचने का पहिया, सूत लपेटने की गड़ारी, बड़ा पहिया, वह ढाँचा जिसमें जोतकर नया घोड़ा निकाला जाता है, झगड़े या बखेड़े का काम ।
 चरखी- (हिं. स्त्री.) छोटा चरखा, सूत लपेटने की फिरकी, कपास ओटने का उपकरण, धिरनी, कुएँ की गड़ारी, कुम्हार का चाक, एक प्रकार की घूमनेवाली अग्नि-कीड़ा ।

चरचना- (हिं. क्रि. स.) शरीर में चन्दन पीतना, लेपना, अनुमान करना, समझ लेना ।
 चरचरा- (हिं. वि.) एक पक्षी ।
 चरचराना- (हिं. क्रि. अ.) चरचर शब्द करते हुए टूटना, धाव का सूख कर पीड़ा उत्पन्न करना, चराना ।
 चरचराहट- (हिं. स्त्री.) शब्द निकलते हुए किसी पदार्थ का टूटना, चराना ।
 चरचा- (हिं. स्त्री.) देखें 'चर्चा' ।
 चरचारी- (हिं. वि.) निन्दक, निन्दा करनेवाला ।
 चरजना- (हिं. क्रि. अ., स.) मुलावा देना, बहकाना, अनुमान करना ।
 चरट- (सं. पुं.) खंजन पक्षी ।
 चरण- (सं. पुं.) पग, पाँव, पैर, बड़ों का साथ, किसी पदार्थ का चौथा भाग, किसी पद्य के आदि का पद, घूमने का स्थान, क्रम, गोत्र, झूल, गमन, सूर्यादि की किरण, आचार, भक्षण; -कमल- (पुं.) पद्म जैसा सुंदर चरण; -गत- (वि.) पैरों पर गिरा हुआ; -गुप्त- (पुं.) एक प्रकार का चित्र-काव्य जिसके कई भेद होते हैं; -चिह्न- (पुं.) पैर के तलवे की रेखा, पैर के आकार का चिह्न; -तल- (पुं.) पैर का तलवा; -दासी- (स्त्री.) स्त्री, पत्नी, जूता, पनही; -पव- (पुं.) गुल्फ, एड़ी, टखना, -पादुका- (स्त्री.) खड़ाऊँ, चरण-चिह्न, पत्थर आदि पर बना हुआ पर का चिह्न जिसका पूजन होता है; -पीठ- (पुं.) चरण-पादुका; -सेवा- (स्त्री.) बड़ों की सेवा, श्रुश्रूया; -सेवी- (पुं.) टहलू, सेवक; (मुहा.) -छूना- पाँव छूकर प्रणाम करना; -पड़ना- आगमन होना; -लेना- पाँव पड़ना ।
 चरणाक्ष- (सं. पुं.) अक्षपाद, गौतम ।
 चरणानुग- (सं. वि.) अनुगामी, शरणागत ।
 चरणामृत- (सं. पुं.) वह जल जिसमें किसी महात्मा के चरण धोये गये हों, पावोदक, एक में मिला हुआ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर जिससे देव-मूर्ति स्नान कराई जाती है ।
 चरणायुध- (सं. पुं.) अरुण-शिला, मुरगा ।
 चरणारविंद- (सं. पुं.) चरण-कमल ।
 चरणार्ध- (सं. वि.) किसी पदार्थ का आठवाँ भाग, श्लोक के पद का आधा भाग ।
 चरणोदक- (सं. पुं.) चरणामृत ।
 चरता- (हिं. स्त्री.) चलने का भाव, पृथ्वी, नृमि ।
 चरती- (हिं. पुं.) वह जो व्रत के दिन उपवास न करता हो ।

चरय-(सं. वि.) चलनेवाला, जंगम।
 चरन-(हि. पूं.) देखें 'चरण'।
 चरनचर-(हि. पूं.) पैदल सिपाही।
 चरनदासी-(हि. स्त्री.) जूता, पनही, पत्नी।
 चरन-श्रद्धार-(हि. पूं.) जूता उठाने और
 रखनेवाला नाँकर।
 चरना-(हि. क्रि. अ., सं.) मनुष्यों का घूम-घूम-
 कर चारा या घास खाना, इधर-उधर
 घूमना, विचरना; (पुं.) घोंती का काछा,
 नज़ारियाँ करने का सोनार का एक अस्त्र।
 चरनायुध-(हि. पूं.) देखें 'चरणायुध'।
 चरनि-(हि. स्त्री.) चाल, गति।
 चरनी-(हि. स्त्री.) पशुओं के चरने का
 स्थान, नाँद जिसमें चौपायों को खाने के
 लिये चारा दिया जाता है, पशुओं का
 आहार, घास इत्यादि।
 चरन्नी-(हि. स्त्री.) चवन्नी।
 चरपट-(हि. पूं.) चपत, थप्पड़, तमाचा,
 चार्द, उचकका, एक प्रकार का छन्द।
 चरपर-(हि. वि.) देखें 'चरपरा'।
 चरपरा-(हि. वि.) स्वाद में तीखा,
 चटपटा, तीखा, तेज।
 चरपराना-(हि. क्रि. अ.) घाव के मूखने
 से उसमें पीड़ा होना।
 चरपरारूट-(हि. स्त्री.) स्वाद की तीक्ष्णता,
 घाव में जलन होना, द्वेष, ईर्ष्या।
 चरफरा-(हि. वि.) देखें 'चरपरा'।
 चरफराना-(हि. क्रि. अ.) तड़फटाना, तड़पना।
 चरवन-(हि. पूं.) भुना हुआ अन्न, चवना।
 चरवाक, चरवाक-(हि. वि.) चतुर,
 निरुदर, निर्भय, चंचल, ठोठ।
 चरवाना-(हि. क्रि. सं.) ढोल पर चमड़ा
 मड़ाना।
 चरवी-(सं. स्त्री.) शरीर में के सात
 धातुओं में से एक जो मांस से बनता है,
 भेद, वसा; (मूहा.)-चड़ना-स्थूल होना,
 मोटा होना, घमंड होना; (आँसों में)
 -छाना-मदान्द्र होना, घमंड करना।
 चरम-(सं. पूं.) ज्योतिष में चर राशि।
 चरम-(सं. वि.) अन्तिम, सबसे बड़ा
 हुआ, परिणाम, अन्त का।
 चरमकाल-(सं. पूं.) अन्तकाल मृत्यु।
 चरम-गिरि-(सं. पूं.) अस्ताचल।
 चरगर-(हि. पूं.) किमी तनी हुई वस्तु के
 धबके से उत्पन्न शब्द।
 चरगराना-(हि. क्रि. अ., सं.) चरमर शब्द
 उच्चारण होना या करना।
 चरगति-(सं. स्त्री.) फलित ज्योतिष में
 मंग, शनि, बुध और मकर राशिका नाम।
 चरवांस-(हि. वि.) देखें 'चरवाँस'।

चरवाई-(हि. स्त्री.) चराने का कार्य।
 चरवाना-(हि. क्रि. सं.) चराने का काम
 दूसरे से कराना।
 चरवाहा-(हि. पूं.) चौपायों को चराने-
 वाला, चौपायों का रक्षक।
 चरवाही-(हि. स्त्री.) पशुओं को चराने
 का काम, चराने का शूल्क।
 चरवाँया-(हि. पूं.) चरने या चरानेवाला।
 चरव्य-(सं. वि.) चर बनाने योग्य।
 चरस-(हि. पूं.) वैल या भैस के चमड़े का
 बना हुआ बड़ा डोल जिससे खेत सींचने
 के लिये कुएँ से पानी खींचा जाता है,
 पुरवट, मोट, भूमि नापने का एक परि-
 माण, गाँज के पेंड से निकाला हुआ गोंद
 जिसको लोग गाँजे की तरह पीते हैं,
 वनमयूर, एक प्रकार का पक्षी।
 चरसा-(हि. पूं.) वैल, भैस आदि का
 चमड़ा, इसका बना हुआ मोट।
 चरसी-(हि. पूं.) चरस द्वारा खेत सींचने
 वाला, चरस पीनेवाला।
 चरही-(हि. स्त्री.) देखें 'चरनी'।
 चराई-(हि. स्त्री.) चराने की क्रिया,
 चराने का काम।
 चराऊ-(हि. स्त्री.) वह स्थान जहाँ पशु
 चरते हैं, चरागाह।
 चराग-(हि. पूं.) देखें 'चिराग', दीपक।
 चरागाह-(फा. पूं.) घास का मैदान
 जहाँ मवेशियाँ चराई जाती हैं।
 चराचर-(सं. वि., पूं.) चर और अचर,
 स्थावर और जंगम, जड़ और चेतन,
 संसार, जगत्।
 चराचरगुरु-(सं. पूं.) ब्रह्मा, परमेश्वर।
 चरान-(हि. पूं.) चौपायों के चरन का स्थान।
 चराना-(हि. क्रि. सं.) चौपायों को चरन के
 लिए मैदान में छोड़ना, छलना, धोखा
 देना, वहकाना।
 चराव-(हि. पूं.) चरनी, चरागाह।
 चरावर-(हि. स्त्री.) व्यर्थ का वार्तालाप,
 बकवाद।
 चरित-(सं. पूं.) आचरण, कृत्य, करतूत,
 चरित्र, किसी मनुष्य के जीवन की विशेष
 घटनाओं का वर्णन; -कार, -लेखक-
 (पुं.) जीवन-चरित्र का लेखक; -नायक-
 (पुं.) वह प्रदान पुरुष जिसके चरित्र के
 आधार पर कोई पुस्तक लिखी जावे;
 -वान्-(पुं.) देखें 'चरित्रवान्'।
 चरितव्य-(सं. वि.) आचरण करने योग्य।
 चरितायं-(सं. वि.) जिसकी अनिलापा
 पूर्ण हो चुकी हो, कृतार्थ, कृतकृत्य, जो
 ठीक-ठीक घटे, यथार्थ; -ता-(स्त्री.)

कृतार्थता।
 चरितार्थी-(सं. वि.) सफलता की कामना
 करनेवाला।
 चरितावली-(सं. स्त्री.) बहुत चरितों या
 जीवनों का संग्रह।
 चरितार-(हि. पूं.) धूर्तता, बहाना, ढोंग,
 चरित्र।
 चरित्र-(सं. पूं.) स्वभाव, करनी, करतूत,
 चरित, कार्य जो कुछ किया जाये; -वान्-
 (वि.) अच्छे चरित्र या आचरण का, सदा-
 चारी; -हीन-(वि.) खराब या अनैतिक
 चरित्रवाला, दुश्चरित्र।
 चरिष्णु-(सं. वि.) चलनेवाला, चर, जंगम।
 चरी-(हि. स्त्री.) पशुओं के चरने की
 भूमि, ज्वार के हरे पौधे जो चौपायों
 को काटकर खिलाने जाते हैं; (सं. स्त्री.)
 सन्देश पहुँचानेवाली दूती, दासी।
 चरु-(सं. पूं.) हवन के लिये पकाया हुआ
 अन्न, वह पात्र जिसमें यह पकाया जाता
 है, माड़ न निकाला हुआ मात,
 पशुओं के चरने की भूमि, यज्ञ, मेघ।
 चरुआ-(हि. पूं.) चौड़े मुख का मिट्टी का पात्र।
 चरुका-(हि. पूं.) एक प्रकार का धान।
 चरुपात्र-(सं. पूं.) चरु पकाने या रखने
 का पात्र।
 चरुवण-(सं. पूं.) एक प्रकार का पक्वान्न।
 चरुस्थाली-(सं. स्त्री.) चरु रखने का पात्र।
 चरेर, चरेरा-(हि. वि.) कर्कश, कड़ा,
 रूखा, खुरदरा।
 चरेरु-(हि. पूं.) पक्षी, चिड़िया।
 चरेली-(हि. स्त्री.) ब्राह्मी बूटी।
 चरया-(हि. वि.) चरनेवाला, चरानेवाला।
 चरेला-(हि. पूं.) एक साथ चार चीजें
 पकाने का चूल्हा।
 चरोखर-(हि. पूं.) चौपायों के चरने का
 स्थान या मैदान।
 चरोतर, चरोवा-(हि. पूं.) किसी मनुष्य
 को जीवन भर के लिये दी हुई भूमि।
 चरख-(हि. पूं.) खराद; -कश-(पुं.)
 खराद की डोरी खींचनेवाला।
 चरखी-(हि. पूं.) देखें 'चरखा'।
 चरखी-(हि. स्त्री.) देखें 'चरखी'।
 चर्चक-(सं. पूं.) चर्चा करनेवाला।
 चर्चन-(सं. पूं.) चर्चा, सुगंधित रागों
 (चंदनादि) का लेपन।
 चर्चर-(सं. वि.) गमनशील, चलनेवाला।
 चर्चरिका-(सं. स्त्री.) नाटक में वह गाना
 जो किसी विषय के समाप्त होने पर और
 दूसरे विषय के आरम्भ होने के पहिले
 होता है।

चर्चरी—(सं. स्त्री.) वह गान जो वसन्त में गाया जाता है, फाग, होली का उत्सव, हथेली पीटना, प्राचीन काल का ढोल, चर्चरिका, एक प्रकार का वर्णवृत्त, आमोद-प्रमोद, क्रीड़ा, सामूहिक गान ।
 चर्चरीक—(सं. पुं.) महाकाल मंत्र ।
 चर्चा—(सं. स्त्री.) वर्णन, कथन, वयान, वातचीत, वार्तालाप, जनश्रुति, लेप, दुर्गा, गायत्रीरूप देवी ।
 चर्चिका—(सं. स्त्री.) वर्णन, चर्चा, एक देवी ।
 चर्चित—(सं. वि.) राग लगाया या पोता हुआ, जिसकी चर्चा की जाती हो ।
 चर्पट—(सं. पुं.) थप्पड़, चपत, खुली हुई हथेली; (वि.) अधिक ।
 चर्पटी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की चपाती ।
 चपरा—(हि. वि.) देखें 'चरपरा' ।
 चर्ची—(हि. स्त्री.) देखें 'चरची' ।
 चर्भट—(सं. पुं.) ककड़ी ।
 चर्भटी—(सं. स्त्री.) चर्चरी गीत, चर्चा, आमोद-प्रमोद ।
 चर्म—(सं. पुं.) चमड़ा, ढाल ।
 चर्मकशा (षा)—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का सुगंध-द्रव्य, एक प्रकार का थूहर ।
 चर्मकार—(सं. पुं.) चमड़े का काम करनेवाला, चमार, रैदास ।
 चर्मकार्य—(सं. पुं.) चमड़े की सिलाई का काम ।
 चर्मकोल—(सं. स्त्री.) बवासीर नामक रोग ।
 चर्मग्रीव—(सं. पुं.) शिव का एक अनुचर ।
 चर्मचक्षु—(सं. पुं.) स्थूल दृष्टि का मनुष्य ।
 चर्मचटका—(सं. स्त्री.) चमगादड़ ।
 चर्मचित्रक—(सं. पुं.) कुष्ठ रोग, फूल, कोढ़ ।
 चर्मज—(सं. पुं.) रक्त, लोहू, रोम ।
 चर्मध्वती—(सं. स्त्री.) चंचल नदी, कदली वृक्ष, केले का पौधा ।
 चर्मतरंग—(सं. पुं.) चमड़े पर पड़ी हुई झुर्री ।
 चर्मदंड—(सं. पुं.) चमड़े का चावुक ।
 चर्मदूषिका—(सं. स्त्री.) दाद का रोग ।
 चर्मदृष्टि—(सं. पुं.) देखें 'चर्मचक्षु' ।
 चर्मदेहा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का मुंह से बजाने का प्राचीन वाजा ।
 चर्मद्रुम—(सं. पुं.) भोजपत्र का वृक्ष ।
 चर्मनालिका, चर्मनासिका—(सं. स्त्री.) देखें 'चर्मदंड' ।
 चर्मपत्रा, चर्मपत्री—(सं. स्त्री.) देखें 'चर्मचटका' ।
 चर्मपादुका—(सं. स्त्री.) चमड़े का जूता ।
 चर्मपीडिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का शीतला रोग ।
 चर्मपुट, चर्मपुटक—(सं. पुं.) चमड़े का

बड़ा कुप्पा जिसमें घृत, तैल इत्यादि रक्खा जाता है ।
 चर्मप्रभेदिका—(सं. स्त्री.) चमड़ा काटने की रखानी, सुतारी ।
 चर्मबंध—(सं. पुं.) चमड़े की बनी हुई चमोटी ।
 चर्ममसूरिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का शीतला रोग ।
 चर्ममुंडा—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी, चर्चिका ।
 चर्मयण्टि—(सं. स्त्री.) चमड़े की छड़ी ।
 चर्मवंश—(सं. पुं.) एक प्रकार का मुंह से फूंककर वजाने का प्राचीन काल का वाजा ।
 चर्मवसन—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 चर्मवृक्ष—(सं. पुं.) देखें 'चर्मद्रुम' ।
 चर्मसंभवा—(सं. स्त्री.) इलायची ।
 चर्मरी—(सं. स्त्री.) एक लता जिसका फल बहुत विषैला होता है ।
 चर्मार—(सं. पुं.) चर्मकार, चमार ।
 चर्मिक—(सं. पुं.) हाथ में ढाल लेकर लड़नेवाला योद्धा ।
 चर्म—(सं. वि.) करने योग्य, जिसका करना आवश्यक है, कर्तव्य ।
 चर्मा—(सं. स्त्री.) जो किया जावे, आचरण, चाल-चलन, वृत्ति, व्यवसाय, कामकाज, सेवा, भक्षण, गमन, चलने की क्रिया, भोजन, जीविका ।
 चर्माता—(हि. क्रि. अ.) लकड़ी का टूटते समय चरचर शब्द करना, शरीर में हलकी पीड़ा होना, चमड़े का रूखा होना से पपड़ी पड़ना, तीव्र अभिलाषा होना ।
 चर्मी—(हि. स्त्री.) व्यंग्यपूर्ण बात, लगती हुई बात ।
 चर्मण—(सं. पुं.) दाँतों से चवाने का कार्य, दवाई जानेवाली वस्तु, मुना हुआ अन्न, चवना, बहुरी ।
 चर्वित—(सं. वि.) दाँतों से चवाया हुआ ।
 चर्वित-चर्वण—(सं. पुं.) पिष्टपेपण, किये हुए काम को दुबारा करना ।
 चर्व्य—(सं. वि.) चवाने योग्य, जो चवाकर खाया जाय ।
 चर्वणि—(सं. पुं.) मनुष्य, नर, आदमी ।
 चर्वणी—(सं. स्त्री.) कुलटा स्त्री ।
 चर्स—(हि. पुं.) देखें 'चरस' ।
 चलता—(हि. वि.) चलता हुआ, चलनेवाला ।
 चलदरी—(हि. स्त्री.) पानी का पौसरा ।
 चल—(सं. वि.) चलायमान, अस्थिर, चंचल; (पुं.) कंपन, पारा, दोप, भल-चूक, घोखा, कपट, छल, दोहा छन्द का एक भेद, नाचने में एक प्रकार की चेष्टा ।
 चलयाना—(हि. क्रि. अ.) चमकना ।
 चलकर्ण—(सं. वि.) सर्वदा कान हिलाने-

वाला; (पुं.) हाथी ।
 चलकेतु—(सं. पुं.) एक प्रकार का पुच्छल तारा ।
 चलचंचु—(सं. पुं.) चकोर पक्षी ।
 चल-चलाव—(हि. पुं.) यात्रा, प्रस्थान, मृत्यु ।
 चलचाल—(हि. वि.) अस्थिर, चंचल ।
 चलचित्र—(सं. पुं.) सिनेमा, वायस्कोप ।
 चलचूक—(हि. स्त्री.) छल, कपट, घोखा ।
 चलता—(हि. वि.) गतिमान, चलता हुआ, चलनेवाला, विना क्रम-भंग का, जिसका प्रचार अधिक हो, काम करने योग्य, व्यवहार में निपुण; (स्त्री.) चंचलता, अस्थिरता; -खाता था लेखा—(पुं.) वह हिसाब जिसमें बराबर लेन-देन चालू रहे, बन्द न किया जावे; -गाना—(पुं.) सामान्य गाना जिसमें संगीतशास्त्र के अनुसार राग-रागिनी की शुद्धतापर विशेष ध्यान न दिया जाय; -पुरजा—(वि.) व्यवहार पट्ट; (मुहा.) -करना-भेजना, निवटाना, तय करना; -बनना-प्रस्थान करना ।
 चलती—(हि. स्त्री.) मान-मर्यादा, अधिकार ।
 चलतू—(हि. वि.) चलता ।
 चलदल—(हि. पुं.) अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष ।
 चलन—(हि. पुं.) गति, चाल, व्यवहार, रीति, भ्रमण, नाच में एक प्रकार की चेष्टा; (मुहा.) -से चलना-मर्यादा के अनुसार काम करना; -समीकरण-गणितीय क्रिया जिसमें एक ज्ञात राशि की सहायता से दूसरी अज्ञात राशि निकाली जाती है ।
 चलन-कलन—(सं. पुं.) ज्योतिष का वह गणित जिसके द्वारा पृथ्वी की गति के अनुसार दिन के बढ़ने-घटने का हिसाब किया जाता है ।
 चलनदरी—(हि. स्त्री.) पुण्यार्थ जल पिलाने का स्थान, पौसरा ।
 चलन समीकरण—(सं. पुं.) गणित की एक विशेष क्रिया ।
 चलनसार—(हि. वि.) व्यवहार में प्रचलित चालू, अधिक दिनों तक चलनेवाला ।
 चलना—(हि. क्रि. अ.) गमन करना, जाना, प्रस्थान करना, हिलना-डोलना, स्फुरित होना, बहना, टिकना, ठहरना, प्रचलित होना, व्यवहार में आना, प्रयुक्त होना, अच्छी तरह काम देना; तीर, गोली आदि का छूटना, शत्रुता या विरोध होना, व्यवसाय में वृद्धि होना, सफल होना, निर्वाह होना, उपाय लगना, अग्रसर होना, बढ़ना, आरंभ होना, छिड़ना, भोजन करने के लिए रखाजाना, निगल; जाना, लेन-देन के काम में आना, हटना, बढ़ना, पढ़ा जाना, निकल जाना, सड़ना

(पुं.) चलनी के आकार का हलवाई का उपकरण, छत्रा; (मुहा.) पेट चलना—अधिक शीघ्र होना; मन चलना—रुच्छा होना, लालसा होना; मुंह चलना—भक्षण करना, वकवाद करना; चल निकलना—उद्वृत्ति करना, आगे बढ़ना, सफलता प्राप्त करना; चल बसना—मृत्यु होना; अपने चलने—यथा-शक्ति; किसी को न चलना—किसी का प्रभाव न पड़ना।
 चलनि—(हि. स्त्री.) देखें 'चलन'।
 चलनिका—(हि. स्त्री.) स्त्रियों का घाघरा।
 चलनी—(हि. स्त्री.) आटा आदि महीन चालने की चलनी।
 चलनीस—(हि. पुं.) चोंकर, चालन।
 चलपत्र—(सं. पुं.) अश्वत्थ, पीपल का पेड़।
 चलवाक—(हि. वि.) शीघ्रगामी, तीव्र चलनेवाला।
 चल-विचल—(हि. वि.) देखें 'चल-विचल'।
 चलवंत—(हि. पुं.) पैदल सिपाही।
 चलवाना—(हि. क्रि. स.) चलाने का काम दूसरे से कराना।
 चल-विचल—(हि. वि.) अपने स्थान से हटा हुआ, बेठिकाने, अव्यवस्थित, अंडबंड; (स्त्री.) व्यतिश्रम, नियम का उल्लंघन।
 चलवैया—(हि. पुं.) चलनेवाला।
 चला—(सं. स्त्री.) विजली, भूमि, पृथ्वी, लक्ष्मी, पिप्पली; (पुं.) व्यवहार, प्रचार, रीति, अधिकार।
 चलाऊ—(हि. वि.) बहुत दिनों तक टिकनेवाला, पुष्ट, टिकाऊ।
 चलाक—(हि. वि.) दक्ष, पटु।
 चलाका—(हि. स्त्री.) विद्युत्, विजली।
 चलाकी—(हि. स्त्री.) दक्षता।
 चलाचल—(सं. वि.) चंचल, अस्थिर।
 चलाचली—(हि. स्त्री.) गति, चाल, चलने समय की व्यग्रता, घुमवाम, तैयारी, हड़बड़ी, बहुत से लोगों का प्रस्थान, चलने की तैयारी; (वि.) जो चलने को तैयार हो, चाल, चंचल।
 चलातक—(सं. पुं.) कम्प-वायु, वात-रोग।
 चलाग—(हि. स्त्री.) चालान, भेजे जाने या चलने का कार्य, अपराधी का फाँड़ा जाकर न्यायालय में बिचार के लिये भेजा जाना, नामद्वियों का एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी हुई सामग्री, माल की गुनी या निचरण, खेना; -दार—(पुं.) चरान के मान जानेवाला मनुष्य, चालानदार।
 चलाना—(हि. क्रि. स.) चलने में लगाना

या प्रेरित करना, हिलाना-डोलाना, कार्य निर्वाह के योग्य करना, मुकदमा करना, व्यापार में वृद्धि करना, किसी शस्त्र से मारना, तीर या गोली छोड़ना, प्रेरित करना, उन्नति करना, अगुआ बनना, आरंभ करना, बनाये रखना, टिकाना, काम में लाना, प्रचलित करना, व्यवहार में लाना; (मुहा.) मन चलाना—लालसा करना; मुंह चलाना—खाना; हाथ चलाना—मारने के लिये हाथ उठाना।
 चलायमान—(सं. वि.) चंचल, चलने-वाला, विचलित।
 चलाव—(हि. पुं.) चलने का भाव, प्रयाण, यात्रा।
 चलावा—(हि. पुं.) रीति, चाल, द्विरा-गमन, गौना।
 चलित—(सं. वि.) चलायमान, अस्थिर, चलता हुआ।
 चलिष्णु—(सं. वि.) चलने को उद्यत, गमनशील।
 चलैया—(हि. वि.) चलनेवाला।
 चलौना—(हि. पुं.) चरखा चलाने का डंडा, दूध चलाने का करछा।
 चलौवा—(हि. पुं.) देखें 'चलावा', उतारा।
 चवकी—(हि. स्त्री.) देखें 'चौकी'।
 चवनी—(हि. स्त्री.) चार आने के मूल्य का सिक्का।
 चवर—(हि. पुं.) देखें 'चवर'।
 चवर्ग—(सं. पुं.) 'च' से 'अ' तक के पाँच अक्षरों का समूह।
 चवा—(हि. स्त्री.) चारों ओर से बहनेवाली हवा।
 चवाई—(हि. पुं.) दुर्नाम फैलानेवाला, निन्दक, झूठी बात कहनेवाला।
 चवाव—(हि. पुं.) प्रवाद, निन्दा की चर्चा, पीठ पीछे की निन्दा।
 चव्य, चव्यक—(सं. पुं.) एक औषधि।
 चशक—(हि. पुं.) देखें 'चसका'।
 चशम—(हि. स्त्री.) आँख, नेत्र।
 चशमा—(हि. पुं.) चश्मा।
 चश्मा—(फा. पुं.) रौत, साँत, ऐनक।
 चप—(हि. पुं.) चदु, नेत्र, आँख।
 चपक—(सं. पुं.) मदिरा पीने का पात्र, मद्य, गृहद।
 चपचोल—(हि. पुं.) आँख तो पलक।
 चपण—(सं. पुं.) भोजन, वच करना, धय, नाग।
 चसक—(हि. स्त्री.) हलकी पीड़ा, मगजी के आगे लगाने की पतली गोद।
 चसकना—(हि. क्रि. अ.) मन्दपीड़ा होना,

टीसना, चसका लगना।
 चसका—(हि. पुं.) दुर्व्यसन, लत, चाट।
 चसना—(हि. क्रि. अ.) प्राण त्यागना, भरना, दो पदार्थों का परस्पर सटना, चपकना, लगना।
 चसम—(हि. स्त्री.) देखें 'चश्म'।
 चसमा—(हि. पुं.) देखें 'चश्मा'।
 चस्का—(हि. पुं.) देखें 'चसका'।
 चह—(हि. पुं.) नदी के कच्चे घाट पर बल्ले गाड़कर उस पर बनाया हुआ मंचान जिस पर से मनुष्य नाव पर चढ़ते हैं, इसी तरह का बना हुआ पुल, गड्ढा।
 चहक—(हि. स्त्री.) पक्षियों का मधुर कलख।
 चहकना—(हि. क्रि. अ.) पक्षियों का मधुर शब्द करना, चहचहाना, उमंग में वकवाद करना।
 चहका—(हि. पुं.) पत्थर या ईंट का बना फर्श, लुआठी, जलती हुई लकड़ी, बनेठी, चहला, कीचड़।
 चहकार—(हि. स्त्री.) देखें 'चहक'।
 चहकारना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'चहकना'।
 चहकारा—(हि. वि.) मधुर ध्वनि करनेवाला, चहकनेवाला।
 चहचहा—(हि. पुं.) चहक, हंसी-ठट्टा; (वि.) आनन्द उत्पन्न करनेवाला, अति मनोहर, ताजा।
 चहचहाना—(हि. क्रि. अ.) पक्षियों का शब्द करना, चहकना।
 चहटा—(हि. पुं.) पंख, कीचड़, चहला।
 चहनना—(हि. क्रि. स.) पर से कुचलना, रौंदना।
 चहना—(हि. क्रि. स.) देखें 'चाहना'।
 चहनि—(हि. स्त्री.) चाह, अमिलापा, इच्छा।
 चहवच्चा—(हि. पुं.) मले पानी का गड्ढा, घन गाड़ने का छोटा तहखाना।
 चहर—(हि. स्त्री.) आनन्द का उत्सव, हल्ला, उपद्रव; (वि.) उत्तम, चंचल, तीव्र, तेज।
 चहरना—(हि. क्रि. अ.) प्रसन्न होना, आनन्दित होना।
 चहर-भहर—(हि. स्त्री.) चहल-भहल।
 चहराना—(हि. क्रि. अ.) तड़कना, फटना, चटकना, प्रसन्न होना।
 चहल—(हि. स्त्री.) कीच, कीचड़, पानी में सनी हुई चिचनी मिट्टी, आनन्द का उत्सव, घुमवाम।
 चहल-कदमी—(हि. स्त्री.) धीरे-धीरे टहलना।
 चहल-पहल—(हि. स्त्री.) अनेक मनुष्यों के आने-जाने की घुम, आनन्द की घुम-घाम।
 चहला—(हि. पुं.) पंख, कीचड़।
 चहली—(हि. स्त्री.) गुएँ से पानी गीचने की गड़ाही।

चहलुम—(हि.पुं.) देखें 'चिहलुम' ।
 चहार-दीवारी—(फा. स्त्री.) मकान आदि के चारों ओर आड़ या बचाव के लिए बनी हुई दीवार, परकोटा ।
 चहुँ—(हि. वि.) चार, चारों ।
 चहुँक—(हि. स्त्री.) देखें 'चिहुँक' ।
 चहुँदिस—(हि. अव्य.) चारों ओर ।
 चहुँधा—(हि. अव्य.) चारों ओर ।
 चहुँ—(हि. वि.) देखें 'चहुँ' ।
 चहुँटना—(हि.क्रि.अ.) सटना, मिलना, लगना ।
 चहेटना—(हि.क्रि.स.) दवाकर रस निचोड़ना, चपेटना, दौड़ाकर पीछा करना ।
 चहेता—(हि.वि.) जिससे प्रेम हो, प्यारा ।
 चहेती—(हि. स्त्री.) प्रियतमा, प्यारी ।
 चहेल—(हि.स्त्री.) चहला, कीचड़, दलदल ।
 चहोरना—(हि.क्रि.स.) पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरी जगह बैठाना, रोपना, देखभाल करना, संभालना ।
 चहोरा—(हि.पुं.) जड़हन धान ।
 चाँइयाँ, चाँई—(हि.पुं.) ठग, उचकका; (वि.) कपटी, छली; (स्त्री.) सिर पर फूसियाँ होने और बाल झड़ने का रोग ।
 चाँक—(हि.पुं.) खलिहान में अन्न के ढेर पर चिह्न करने की लकड़ी की थापी, अन्न-राशि के चारों ओर खींचा हुआ घेरा ।
 चाँकना—(हि.क्रि.स.) खलिहान में अनाज के ढेर पर चिह्न लगाना, सीमा बाँधने के लिये चिह्नित करना; हद्द बाँधना, पहिचानने के लिये किसी प्रकार का चिह्न लगाना ।
 चाँगला—(हि. वि.) आरोग्य, स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट, चतुर ।
 चाँगरी—(हि.स्त्री.) खट्टी लोनी का शाक ।
 चाँचर, चाँचरि—(हि. स्त्री.) एक राग जो वसन्त ऋतु में गाया जाता है, भूमि जो कई वर्षों से परती पड़ी हुई हो, मड़ती भूमि ।
 चाँचल्य—(सं.पुं.) चंचलता, चपलता ।
 चाँचु—(हि.पुं.) चंचु, चोंच ।
 चाँटा—(हि.पुं.) चिउंटा, थप्पड़, तमाचा ।
 चाँटी—(हि. स्त्री.) चींटी ।
 चाँड़—(हि. वि.) बलवान, प्रबल, उद्धत, तुप्त, अघाया हुआ; (स्त्री.) पाख का बाँस या बल्ला; मार संभालने की थूनी, टेक, आकुलता, व्याकुलता, बड़ी लालसा, संकट, दवाव, प्रबल इच्छा, अधिकता; (मुहा.)—सरना—इच्छा पूर्ण होना ।
 चाँड़ना—(हि.क्रि.स.) खोदकर गिराना, उजाड़ना ।
 चाँडाल—(सं.पुं.) वपच, डोम, अंत्यज,

नीच जाति, दुष्ट, दुरात्मा, क्रूर, निष्ठुर, पतित मनुष्य ।
 चाँडालिका—(सं. स्त्री.) दुर्गा, एक पौधा ।
 चाँडालिनी—(सं. स्त्री.) एक तंत्रोक्त देवी का नाम ।
 चाँडाली—(सं.स्त्री.) चाँडाल की स्त्री, डोमिन ।
 चाँद—(हि.पुं.) चन्द्रमा, दूज के चन्द्रमा के आकार का गहना, ढाल के ऊपर का पुष्पाकार काँटा, थोड़े के सिर पर की भंवरी, एक प्रकार का गोदना; (स्त्री.) मस्तक के बीच का भाग;—का कुंडल—(पुं.) चन्द्रमा के चारों ओर का प्रभामण्डल;—का टुकड़ा—(पुं.) अति सुन्दर मनुष्य;—दीखे—(अव्य.) शुक्ल पक्ष की दुइज के बाद;—सा-मुखड़ा—(पुं.) अति सुन्दर मुख; (मुहा.)—पर थूकना—किसी महात्मा को कलकित करना;—पर धूल डालना—किसी निर्दोष व्यक्ति पर लांछन लगाना;—पर बाल न छोड़ना—सिर पर खूब जूते लगाना; किधर चाँद निकला—आप किधर से दिखाई पड़े ।
 चाँदतारा—(हि. स्त्री.) डूटीदार, वारीक, या महीन मलमल, एक प्रकार की गुड्डी या पतंग ।
 चाँदना—(हि.पुं.) प्रकाश, उजाला ।
 चाँदनी—(हि. स्त्री.) चन्द्रिका, चन्द्रमा का प्रकाश, कौमुदी, ज्योत्स्ना, विछाने की उज्ज्वल चादर, श्वेत चंदवा, छत-गीर, तगर, गुलचाँदनी; (मुहा.)—छिटकना—चन्द्रमा का स्वच्छ प्रकाश फैलना;—मारना—थोड़ों पर चन्द्रिका का बुरा प्रभाव पड़ना; चार दिन की चाँदनी—थोड़े दिनों का वैभव या आनन्द ।
 चाँदवाला—(हि.पुं.) कान में पहिनने का एक आभूषण ।
 चाँदमारी—(हि. स्त्री.) दीवार, पटरे इत्यादि पर बने हुए चिह्नों को लक्ष्य करके गोली चलाने का अभ्यास ।
 चाँदला—(हि. वि.) वक्र, कुटिल, टढ़ा ।
 चाँदा—(हि.पुं.) वह निर्धारित स्थान जहाँ से भूमि की नाप की जाती है, छप्पर का पाखा ।
 चाँदी—(हि.स्त्री.) एक श्वेत, नरम और चमकीली धातु, रजत, रौप्य, आर्थिक लाभ, खोपड़ी का मध्य भाग; (मुहा.)—कर देना—जलाकर राख करना;—का जूता—उल्कोच, घूस;—काटना—खुद आय करना;—का पहरा—समृद्धि का समय ।
 चाँद—(सं. वि.) चंद्र संबंधी ।
 चाँद-मास—(सं.पुं.) चंद्रमा की गति के

अनुसार होनेवाला माह या महीना ।
 चाँद-वत्सर—(सं.पुं.) चंद्रमा की गति के अनुसार माना जानेवाला वर्ष ।
 चाँद-व्रतिक—(सं.वि.) चाँद्रायणव्रत संबंधी ।
 चाँद्रायण—(सं.पुं.) एक-मास-व्यापी व्रत जिसमें चंद्रमा के घटने-बढ़ने के अनुसार भोजन की मात्रा घटायी-बढ़ायी जाती है ।
 चाँप—(हि.पुं.) चाँपना, दवाव, भूमि पर पैर पड़ने का शब्द, धक्का; वह पुरजा जिससे बन्दूक की नली कुन्दे से जुड़ी रहती है, चम्पा का फूल, तीव्र प्रेरणा ।
 चाँपना—(हि. क्रि. स.) दवाना ।
 चाँयँचाँयँ—(हि.पुं.) व्यर्थ की बकबक ।
 चाँवँचाँव—(हि.पुं.) देखें 'चाँयँचाँयँ' ।
 चाइ—(हि.पुं.) देखें 'चाव' ।
 चाउ—(हि.पुं.) देख 'चाव' ।
 चाउर—(हि.पुं.) देखें 'चावल' ।
 चाक—(हि.पुं.) कुम्हार का गोल पत्थर जिसको घुमाकर तथा मिट्टी का लोढ़ा रखकर वह पात्र आदि बनाता है, कुलालचक्र, गाड़ी या रथ का पहिया, कुएँ से पानी खींचने की चरखी, मिस्त्री जमाने की धरिया, चाकू, सान, ऊख का रस रखने का पात्र, मण्डलाकार चिह्न ।
 चाकचक—(हि.वि.) चारों ओर से रक्षित, दृढ़ ।
 चाकचक्य—(सं. स्त्री.) चमचमाहट, उज्ज्वलता, सुन्दरता, शोभा ।
 चाकना—(हि.क्रि.स.) सीमावद्ध करन के लिये चारों ओर रेखा खींचना, हद्द बनाना, अन्न के ढेर पर मिट्टी या गोबर रखना, पहिचान के लिए चिह्न लगाना ।
 चाकरनी, चाकरानी—(हि.स्त्री.) नौकरानी, दासी ।
 चाकसू—(हि.पुं.) वन कुलथी का पौधा ।
 चाका—(हि.पुं.) चाक, चीनी का बड़ा बतारा ।
 चाकौ—(हि.स्त्री.) आटा पीसने की चक्की, बज्र, विजली ।
 चाक्रायण—(सं.पुं.) चक्र ऋषिका वंशज ।
 चात्रिक—(सं.पुं.) स्तुति-नायक, बन्दी, भाट, तेली, गाड़ीवान, कुम्हार; (वि.) चक्राकार, चक्र-संबंधी ।
 चाक्षुष—(सं. वि.) चक्षु संबंधी, जिसका ज्ञान देखने से हो, न्याय में ऐसा प्रमाण जिसका बोध आँखों से देखने से हो, स्वयंभुव मनु के पुत्र का नाम ।
 चाखना—(हि. क्रि.स.) देखें 'चखना' ।
 चाचर, चाचरि—(हि. स्त्री.) होली में गाने का गीत, होली का खेल और स्वांग, उपद्रव, हुल्लड़ ।

चाचरी—(हि. स्त्री.) दोग की एक मुद्रा ।
 चाचा—(हि. पुं.) पितृव्य, पिता का भाई ।
 चाचो—(हि. स्त्री.) चाचा की स्त्री ।
 चाट—(हि. स्त्री.) चरपरी वस्तुएँ खाने की उत्कट अभिलाषा, स्वाद लेने की इच्छा, चमका, लालसा, लोलुपता, व्यसन, टेव, गजक; (पुं.) ठग, उचक्का; —की टेंगड़ी—(स्त्री.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
 चाटना—(हि. क्रि. स.) स्वाद लेने के लिये किसी वस्तु को जीम से उठाना, जीम लगाकर खाना, पाँचकर खा जाना, (पशुओं का) प्रेम से जीम फेरना, कीटों द्वारा खाया जाना; (मुहा.) चूमना-चाटना-प्यार करना; चाट जाना-खा जाना, चाट टालना, (किसी को) तवाह कर देना ।
 चाटु—(सं. पुं.) मीठी बात, प्रिय वार्ता, झूठी प्रशंसा; —कार—(पुं.) झूठी प्रशंसा या चापलूसी करनेवाला; —कारी—(स्त्री.) चापलूसी; —बटु—(पुं.) नाँड़, विद्रूपक ।
 चाड़—(हि. स्त्री.) तीव्र अभिलाषा, प्रेम, चाह, चाँड़ ।
 चाड़ी—(हि. स्त्री.) पीठ पीछे निन्दा ।
 चाड़ा—(हि. पुं.) प्रेम-भात्र, प्यारा, आसक्त, चाहनेवाला ।
 चाणक्य—(सं. पुं.) अनेक नीति-ग्रन्थों के रचनेवाले प्रसिद्ध मुनि जो कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हैं । (वे पाटलिपुत्र के राजा चन्द्रगुप्त के मन्त्री थे ।)
 चाणूर—(सं. पुं.) कंस का शोका जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था ।
 चातक—(सं. पुं.) एक पक्षी जो वर्षा ऋतु में बहुत शोलता है, पपीहा ।
 चातकानन्दन—(सं. पुं.) वर्षाकाल, मेघ ।
 चातर—(हि. पुं.) मछली पकड़ने का बड़ा जाल, पड्यन्म ।
 चातुर—(सं. वि.) चतुर, घूर्त; (पुं.) चार पहियोंकी गाड़ी; —ई—(स्त्री.) —देखें 'चतुरई' ।
 चातुरी; —ता (स्त्री.) देखें 'चतुरता' ।
 चातुराश्रम—(सं. पुं.) हिन्दू धर्म के अन्तर्गत ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास—ये चार आश्रम ।
 चातुरिक—(सं. पुं.) सारथी, स्वर्हाकनेवाला ।
 चातुरी—(हि. स्त्री.) चतुराई, घूर्तता ।
 चातुर्वर्ष, चातुर्विक—(सं. पुं.) चौथे दिन आनेवाला ज्वर ।
 चातुर्विंश—(सं. वि., पुं.) चतुर्दशी को उत्पन्न, एक राशन का नाम ।
 चातुर्विंश—(सं. पुं.) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पदार्थ ।
 चातुर्विंशत्य—(सं. पुं.) विष्णु भगवान् ।

चातुर्मास—(सं. पुं.) वर्षा के चार मास; (वि.) चार मास में होनेवाला ।
 चातुर्मासिक—(सं. वि., पुं.) चार महीने में होनेवाला (यज्ञ) ।
 चातुर्मासी—(सं. स्त्री.) पीर्णमासी ।
 चातुर्मास्य—(सं. पुं.) चौमासे में होनेवाला एक वैदिक यज्ञ ।
 चातुर्थ—(सं. पुं.) चतुराई, दक्षता, निपुणता ।
 चातुर्वर्ण्य—(सं. पुं.) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये चार वर्ण ।
 चात्र—(सं. पुं.) अग्निमन्यनकी खैर की लकड़ी ।
 चादर—(फा. स्त्री.) औरतों का साड़ी पर ओढ़ने का लंबा-चौड़ा दुपट्टा, विछौने आदि पर विछाने का वस्त्र, पिछौरी, धातु का पत्तर, चदर; (मुहा.) —उतारना—इज्जत लेना (किसी स्त्री की); —ओढ़ाना या डालना—विधवा स्त्री से विवाह करना; —देखकर पाँव फलाना—आय के अनुसार व्यय करना ।
 चादरा—(हि. पुं.) मरदानी चादर ।
 चानक—(हि. अव्य.) अकस्मात् ।
 चानन—(हि. पुं.) चन्दन ।
 चानस—(हि. पुं.) ताश का एक खेल । (यह शब्द अ. चान्स का अपभ्रंश है ।)
 चाप—(सं. पुं.) धनुष, कमान, रेखागणित में अर्धवृत्त क्षेत्र, वृत्त की परिधि का अंश, धनु राशि; (हि. स्त्री.) दवाव, पैर की आहट ।
 चाप जरीब—(हि. पुं.) खेत की लंबाई की नाप ।
 चापट—(हि. वि., स्त्री.) देखें 'चापड', चोकर ।
 चापड़—(हि. वि.) जो दक्कर चिपटा हो गया, समतल, बराबर, चौपट, उजाड़, नष्ट-भ्रष्ट; (हि. स्त्री.) चोकर, भूसी ।
 चापवंड—(सं. पुं.) वह डंडा जिससे कोई वस्तु आगे की ओर ढकेली जावे ।
 चापना—(हि. क्रि. स.) दवाना, दावना ।
 चापर—(हि. वि.) देखें 'चापड़' ।
 चापल—(सं. पुं.) अस्थिरता, चंचलता; (वि.) चंचल ।
 चापल्य, चापलता—(सं. पुं. स्त्री.) चंचलता, चपलता ।
 चापलूस—(फा. वि.) झूठी प्रशंसा करनेवाला, बुशामद या चाटुकारी करनेवाला ।
 चापलूसी—(फा. स्त्री.) झूठी प्रशंसा, बुशामद, चाटुकारी ।
 चापी—(हि. वि., पुं.) धनुष धारण करनेवाला, गिब, महादेव, धनु राशि ।
 चाफंद—(हि. पुं.) एक प्रकार का मछली पकड़ने का जाल ।

चाव—(हि. स्त्री.) चव्य, एक पौधा जिसकी जड़ और डाल औषधियों के काम में आती है, एक प्रकारका वाँस, चौमड़ का दाँत, डाढ़ ।
 चावना—(हि. क्रि. स.) दाँतों से कुचलकर खाना, चवाना ।
 चावी—(हि. स्त्री.) कुंजी, ताली, यन्त्र के किसी भाग को दृढ़ करने का पेच; (मुहा.) —देना—कुंजी घुमाकर ताला बन्द करना; —भरना—चावी देना ।
 चावुक—(फा. पुं.) कोड़ा, हंटर, साँटा ।
 चावुक-सवार—(फा. पुं.) घोड़े को सधाने या निकालनेवाला सवार ।
 चाभना—(हि. क्रि. स.) भोजन करना, खाना; (मुहा.) माल चाभना—नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन करना ।
 चाभा—(हि. पुं.) बँलों की जीम का एक रोग जिसके होने पर उनसे कुछ खाया नहीं जाता ।
 चाभी—(हि. स्त्री.) देखें 'चावी', ताली, कुंजी ।
 चाभ—(हि. पुं.) चर्म, चमड़ा, खाल; —के दाम—(पुं.) चमड़े के सिक्के; (मुहा.) —के दाम चलाना—अन्धेर मचाना ।
 चाभचोरी—(हि. स्त्री.) गुप्त रूप से पर-स्त्री-गमन ।
 चाभड़ी—(हि. स्त्री.) देखें 'चमड़ी' ।
 चाभर—(सं. पुं.) चँवर, मोरछल, एक वर्ण-वृत्त का नाम ।
 चाभरपुष्प—(सं. पुं.) सुपारी का वृक्ष, आम, केतकी ।
 चाभरी—(सं. स्त्री.) सुरा गाय ;
 चाभारिक—(सं. पुं.) चँवर डोलानेवाला ।
 चाभीकर—(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना, धतूर ; (वि.) सोनहला ।
 चाभुंडा—(सं. स्त्री.) शुम्भ-निशुम्भ नामक देवियों को मारनेवाली देवी, भैरवी ।
 चाय—(हि. स्त्री.) एक पीघा जिसकी पत्तियों को उवालकर इसमें दूध और चीनी मिलाकर सर्वत्र लोग पीते हैं; —पानी—(पुं.) जलपान, कलेवा ।
 चायक—(हि. वि., पुं.) चाहनेवाला, प्रेमी, इकट्ठा करनेवाला ।
 चार—(हि. वि., पुं.) तीन और एक की संख्या (का), अनेक, कई एक, थोड़ा-सा, थोड़े-तहत; (हि. पुं.) गति, चाल, गमन, गुप्तचर, जासूस, कारागृह, बन्दन, सेवक, दास, रीति, आचार, ध्यवहार; (मुहा.) —आँखें करना—आँखें मिलाना; —आँखें होना—साक्षात्कार होना; —के कंधे चढ़ना—मर जाना; —दिन—चौड़े दिन; —दिन को चाँदनी—अस्थायी मुत्त, वस्तु, गोस्व

आदि; -पाँव-हीला-हवाला; -पाँच करना-हीला-हवाला या टाल-मटोल करना; -पैसे-(पुं.) कुछ धन; चारों खाना चित्त गिरना-हाथ-पाँव फैलाये हुए पीठ के बल गिरना ।
चारक-(सं. पुं.) चरवाहा, चालक, सहचर, साथी, जासूस, भेदिया ।
चारकान-(हिं. पुं.) चौसर या पासे का एक दाँव ।
चारखाना-(हिं. पुं.) एक प्रकार का कपड़ा जिसमें ताने और वाने के रंगीन डोरों से चौखूँटे खाने बने होते हैं ।
चारण-(सं. पुं.) कीर्तिगायक, माट, बन्दी, घूमनेवाला मनुष्य ।
चारन-(हिं. पुं.) देखें 'चारण' ।
चारना-(हिं. क्रि. स.) पशुओं को चराना ।
चारपाई-(हिं. स्त्री.) छोटा पलंग, खटिया, खाट; (मुहा.)-पकड़ना -इतना रोगी होना कि चारपाई पर से उठ न सकना; -पैर पड़ना-खाट पर लेटना, रोगी होना ।
चारयारी-(हिं. स्त्री.) चार मित्रों की मण्डली, मुसलमानों में सुन्नी सम्प्रदाय की मण्डली, चाँदी का चौकोर सिक्का जिस पर खलीफाओं का नाम अथवा कलमा खोदा रहता है ।
चारवा-(हिं. पुं.) चौपाया, पशु ।
चारवायु-(सं.पुं.) गरमी के दिनों की हवा, लू ।
चारा-(हिं. पुं.) पशुओं के खाने की घास-पात, जिस वस्तु को बंसी में लगाकर मछली फँसाई जाती है ।
चारि-(हिं. वि.) देखें 'चार' ।
चारिका-(सं. स्त्री.) सेविका ।
चारिणी-(सं. वि. स्त्री.) आचरण करनेवाली ।
चारित-(सं. वि.) जो चलाया गया हो, चलाया हुआ ।
चारित्र-(सं. पुं.) परम्परा का अःचार-व्यवहार, चाल-चलन, स्वभाव, मरुद्गणों में से एक; -वती-(सं. स्त्री.) एक प्रकार की समाधि; -विनय-(पुं.) शिष्टाचार, नम्रता ।
चारित्र्य-(सं. पुं.) चरित्र ।
चारी-(हिं. वि.) चलनेवाला, आचरण या व्यवहार करनेवाला; (पुं.) पदल सिपाही ।
चारु-(सं. वि.) सुन्दर, रुचिर, मनोहर; (पुं.) बृहस्पति, कृष्ण के पुत्र का नाम जो रुविमणी से उत्पन्न थे, कुकुम, केसर ।
चारुक-(सं. पुं.) सरपत का बीज ।
चारुकेसरी-(सं. स्त्री.) सेवती का पुष्प ।
चारुचित्र-(सं.पुं.) घृतराष्ट्र के पुत्र का नाम ।

चास्ता-(सं. स्त्री.) मनोहरता, सुन्दरता ।
चाग्धारा-(सं. स्त्री.) इन्द्र की पत्नी, शची ।
चारुनालक-(सं.पुं.) लाल कमल, कोकनदा ।
चारुनेत्र-(सं.पुं.) हरिन; (वि.) सुन्दर नेत्रों का ।
चारुफला-(सं. स्त्री.) अंगूर की लता ।
चारुरावा-(सं. स्त्री.) इन्द्र की पत्नी, शची ।
चारुहासिनी-(सं. वि., स्त्री.) सुन्दर मूसकानेवाली, बैताली छन्द का एक भेद ।
चारुहासी-(सं. वि.) सुन्दर हँसनेवाला ।
चावक-(सं. पुं.) एक अनीश्वरवादी तथा नास्तिक ताकिक का नाम; -दर्शन या मत-(पुं.) चावकिरचित नास्तिक दर्शन ।
चावी-(सं. स्त्री.) चन्द्रिका, ज्योत्स्ना, दीप्ति, बुद्धि, सुन्दर स्त्री ।
चाल-(हिं. स्त्री.) गति, गमन, चलने का ढंग, आचरण, व्यवहार, आकृति, बनावट, कार्य करने की रीति, छलने की युक्ति, कपट, छल, धूर्तता; आहट, आन्दोलन; (पुं.) किराये का बड़ा घर, छप्पर, घर की छत; (मुहा.)-चलना-छल से अपना कार्य सिद्ध करना, धूर्तता करना; -फँसना-शतरंज के खेल में अपने किसी मुहुरे का फँसना; -में आना-बोखे में पड़ना; -मुधारना-कुटव ठीक करना ।
चालक-(हिं. वि.) चलानेवाला, सचालक, छल करनेवाला, धूर्त, चतुर ।
चाल-चलन-(हिं. पुं.) आचरण, व्यवहार, शील, चरित्र ।
चालढाल-(हिं. स्त्री.) आचरण, व्यवहार, ढंग ।
चालन-(हिं. पुं.) चलने या चलाने की क्रिया, गति, गमन ।
चालनहार-(हिं.पुं.) चलानेवाला, लेजानेवाला ।
चालना-(हिं. क्रि. अ., स.) चलाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, बच्चे को विदा कराके अपने घर लाना, हिलाना-डुलाना, कार्य निमाना, प्रसंग छेड़ना, चलनी में आटे को हिलाकर चोकर अलगाना, गति में होना, विदा होकर आना ।
चालनी-(हिं. स्त्री.) चलनी, छलनी ।
चाल-चाज-(हिं. वि.) धूर्त, कपटी, धोखा देनेवाला ।
चाल-चाजी-(हिं. स्त्री.) धूर्तता, धोखा ।
चाला-(हिं. पुं.) प्रस्थान, प्रस्थान करने का शुभ मुहूर्त; -देखना-यात्रा करने के लिये शुभ मुहूर्त का विचार करना ।
चालाक-(फा. वि.) चतुर, धूर्त ।
चालाकी-(फा. स्त्री.) चतुराई, धूर्तता ।
चालान-(हिं. पुं.) भेजे हुए माल की सूची, बीजक, भेजे हुए माल का व्योरे-वार हिसाब, खजाना, अपराधी का विचार

के लिये अदालत में भेजा जाना ।
चालानदार-(हिं. पुं.) जमादार जो चालान के साथ भेजा जाता है ।
चालिया-(हिं. वि.) धूर्त, छली ।
चालिस-(हिं. वि. पुं.) देख 'चालीस' ।
चाली-(हिं. वि.) धूर्त, उपद्रवी, नटखट ।
चालीस-(हिं. वि. पुं.) तीस और दस की संख्या (का); -वाँ-(वि.) उनतालीस के बाद का ।
चालीसा-(हिं. पुं.) चाली सवस्तुओं का समूह, चालीस दिन का समय, चालीस पद्यों का काव्य; (पुं.) मृतक-कर्म में चालीसवें दिन का कृत्य ।
चालुक्य-(सं.पुं.) दक्षिण भारत के एक अति प्रतापी प्राचीन राजवंश का नाम ।
चालूह-(हिं. स्त्री.) चेलूवा नामक मछली ।
चालूही-(हिं. स्त्री.) नाव में खेनेवाले मल्लाह के बैठने का स्थान ।
चाव-(हिं. पुं.) अभिलाषा, लालसा, उत्कट इच्छा, अनुराग, प्रेम, चाह, दुलार, प्यार, उमंग, उत्साह, आनंद; -चोचला-(पुं.) लाड़-प्यार, नखरा ।
चावड़ी-(हिं. स्त्री.) यात्रियों के ठहरने का स्थान, चट्टी, पड़ाव ।
चावल-(हिं. पुं.) तण्डुल, धान के भीतर से निकाला हुआ अन्न, रत्ती के आठवें भाग के बराबर का परिमाण ।
चाशनी-(हिं. स्त्री.) मिर्ची, चीनी अथवा गुड़ का अग्नि पर पकाकर गाढ़ा हुआ रस जिसमें डुवाकर अनेक मिठाइयाँ बनती हैं, थोड़े से मीठे की मिलावट, चसका, नमूने का सोना जो सोनार को गहना बनाने के लिये देनेवाला ग्राहक बने हुए गहने के सोने को मिलाने के लिये अपने पास रख लेता है; (मुहा.) -में पागना-चाशनी में डुबोकर मिठाई तैयार करना ।
चाप-(सं. पुं.) नीलकण्ठ पक्षी, चाह, नेत्र, आँख ।
चास-(हिं. स्त्री.) खेती ।
चासना-(हिं. क्रि. स.) खेत जोतना ।
चासनी-(हिं. स्त्री.) देखें 'चाशनी' ।
चासा-(हिं. पुं.) हलबाहा, किसान, खेतिहर ।
चाह-(हिं. स्त्री.) इच्छा, अभिलाषा, प्रीति, प्रेम, आदर, आवश्यकता, समाचार, मर्म, गुप्त भेद, चाय, चाव ।
चाहक-(हिं. वि.) चाहनेवाला, प्रेम करनेवाला ।
चाहत-(हिं. स्त्री.) चाह, प्रेम ।
चाहना-(हिं. क्रि. स.) प्रेम करना, अग्नि-

नापा करना, प्यार करना, इच्छा करना, पाने की इच्छा करना, माँगना, प्रयत्न करना, मिहारना, ताकना, खोजना, हँडना; (स्त्री.) आव्यन्वयता, चाह।

चाहा—(हि. पुं.) एक जलपक्षी जो बगुले के मद्दना होता है।

चाहि—(हि. अव्य.) अपेक्षा, से।

चाहिये—(हि. अव्य.) उचित है, ठीक है।

चाही—(हि. वि., स्त्री.) चाही हुई, चहेती, प्यारी, हुए के पानी से सींची जानेवाली (नूमि)।

चाहे—(हि. अव्य.) इच्छा हो, मन में आवे, श्रेय तो, या तो, होनेवाला होतो।

चिआं—(हि. पुं.) इमली का बीज।

चिआंसी—(हि. वि.) छोटी-सी, नन्हीं-सी।

चिउंटा—(हि. पुं.) एक काले रंग का कीड़ा जो भंडे (गुट आदि) के पान बहुत आता है और उसका जल्दी नहीं छोड़ता; (मुहा.) गुट चिउंटा होना—एक-दूसरे से चिमट जाना, सहज में अलग न होना; चिउंटे के पर जमना—ऐना काम करना जिसमें मूल्य का भय हो।

चिउंटी—(हि. स्त्री.) चींटी, पिपीलिका; —की चाल—(स्त्री.) अत्यन्त मन्द गति।

चिगट—(सं. पुं.) सिंगवा या शीगा मछली।

चिंगना—(हि. पुं.) पक्षी का छोटा बच्चा, छोटा बालक।

चिंगारी—(हि. स्त्री.) देखें 'चिनगारी'।

चिगुरना—(हि. क्रि. अ.) थंग या किसी नम का मंगुचित होना या जकड़ना।

चिगुरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का बगला।

चिवाड़—(हि. स्त्री.) पशु के चीखने का शब्द, चिल्लाहट, हाथी का शब्द।

चिवाड़ना—(हि. क्रि. अ.) चीरना, हाथी का चिल्लाना।

चिचिनी—(सं. स्त्री.) शमली का वृक्ष या फल।

चिजा—(हि. पुं.) पुत्र, बेटा, लड़का।

चिजी—(हि. स्त्री.) बेटा, पुत्री।

चिड—(हि. पुं.) नाच का एक नैट।

चित—(हि. स्त्री.) चिता, याद, व्यग्रता।

चितक—(सं. वि.) चिता या चितन करने-वाला, मनन करनेवाला।

चितन—(सं. पुं.) सोचने या ध्यान करने की क्रिया, मनन, मोक्षना-विचारना, ध्यान।

चितनीद—(सं. वि.) चितन करने योग्य, विचारयोग्य, ध्येय।

चिता—(सं. स्त्री.) चितन, चित्त, सोच, ध्यान, परदाह।

चितामग्न—(सं. वि.) चित्तगारक, चित्तन करनेवाला।

चितामग्न—(सं. वि.) चिता में मग्न या बोया हुआ, ध्यानस्थ, विचारमग्न।

चितामणि—(सं. स्त्री.) वह कल्पित मणि जो सब कामनाएँ पूरी करनेवाली मानी गई हैं; परमेश्वर, सरस्वती का एक मंत्र।

चिताकुल—(सं. वि.) चितामग्न।

चिततुर—(सं. वि.) चिता के कारण उद्विग्न।

चितित—(सं. वि.) सोचा हुआ, चिता-मग्न, सोच में पड़ा हुआ।

चित्त्य—(सं. वि.) चितन करने योग्य।

चिदी—(हि. स्त्री.) टुकड़ा; (मुहा.) —करना—टुकड़े करना; हिंदी की चिदी निकालना—अशुद्धियाँ करना, कुतर्क करना।

चिपांजी—(अं. पुं.) अफ्रीका में पाया जाने-वाला एक बड़ा डीलडौलवाला वनमानुस।

चिउंटा—(हि. पुं.) चींटा।

चिउंटी—(हि. स्त्री.) चींटी; (मुहा.)—की चाल—बहुत मंद या धीमी चाल; —के पर जामना या निकलना—शामत आना, मरन या विनाश का समय सिर पर आना। चिउड़ा, चिउरा—(हि. पुं.) हरे धान को कूटकर बनाया हुआ चिपटा चावल, चिड़वा, चूड़ा।

चिउली—(हि. स्त्री.) महुए की जाति का एक जंगली वृक्ष, एक प्रकार का रंगीन रेगमी वस्त्र, चिकनी सुपारी।

चिक—(हि. स्त्री.) वाँस आदि की पतली तीलियों का बना परदा; (पुं.) कसाई।

चिकट—(हि. वि.) मैल जमा हुआ, बहुत मैला; (पुं.) एक प्रकार का रेशमी वस्त्र।

चिकटना—(हि. क्रि. अ.) जमी हुई मैल के कारण लसीला होना।

चिकटा—(हि. वि.) देखें 'चिकट'।

चिकन—(फ्रा. पुं.) उमड़े हुए कशीदेवाला महीन सूती वस्त्र; —कारी, —दोजी—(स्त्री.) चिकन काढ़ने का काम।

चिकना—(हि. वि.) चिककण, जो रुखा न हो, जिस पर से पर फिसल जावे, स्निग्ध तेल लगा हुआ, स्वच्छ, साफ-सुथरा, मीठी-मीठी वाला करनेवाला, अनुरागी, प्रेमी; (पुं.) स्निग्ध पदार्थ, यथा—तेल, धी, चरबी आदि; (मुहा.)—देख फिसल पड़ना—धन या रंग—रूप देखकर लुब्ध होना; चिकने घड़े पर पानी पड़ना—शत्रुपक्ष का कुछ प्रभाव न पड़ना; —घड़ा—(वि.) निर्लज्ज, बेहूश; —चुपड़ा—(वि.) टाट-बाट बनाये हुए सिंगार किये हुए; चिकनी-चुपड़ी वाला—(स्त्री.) मीठी-मीठी बातें जो धोपा देने के लिये कही जायें; चिकने मुँह का ठग—(पुं.) धूर्त जो देगने

में शिष्ट मनुष्य ज्ञात होता है।

चिकनाई—(हि. स्त्री.) स्निग्धता, चिकनापन।

चिकनाना—(हि. क्रि. अ., स.) चिकना करना, तैल-मर्दन करना, सँवारना, चिकना होना, मोटा होना, अनुरक्त होना, स्नेह-युक्त होना, प्रेमपूर्ण होना, रुखा न होने देना।

चिकनापन—(हि. पुं.) चिकनाई, चिकनाहट, चिकनावट।

चिकनाह(व)ट—(हि. स्त्री.) देखें 'चिकनापन'।

चिकनिया—(हि. वि.) छैला, बाँका, बना-ठना, रंगीला।

चिकनी मिट्टी—(हि. स्त्री.) लसदार मिट्टी, करैली मिट्टी।

चिकनी सुपारी—(हि. स्त्री.) खँरके जल में उवाली हुई चिपटी सुपारी।

चिकरना—(हि. क्रि. अ.) चीखना, चिघाड़ना, चिल्लाना।

चिकवा—(हि. पुं.) मांस बेचनेवाला, कसाई।

चिकार—(हि. पुं.) चीत्कार, चिघाड़, चीख।

चिकारना—(हि. क्रि. अ.) चीखना, चिघाड़ना।

चिकारा—(हि. पुं.) सारंगी की तरह का एक बाजा, हरिन की जाति का एक जंगली पशु।

चिकारी—(हि. स्त्री.) छोटा चिकारा, एक प्रकार का छोटा कीड़ा।

चिकित्सक—(सं. पुं.) चिकित्सा या दवा करनेवाला, वैद्य, हकीम, डॉक्टर।

चिकित्सन—(सं. पुं.) चिकित्सा की पद्धति, ढंग आदि।

चिकित्सा—(सं. स्त्री.) रोग दूर करने तथा शरीर को निरोग करने की विधि, रोग-शान्ति का उपाय, वैद्य का व्यवसाय या कार्य।

चिकित्सालय—(सं. पुं.) रोगियों की भली-भाँति चिकित्सा करने का स्थान।

चिकित्सित—(सं. वि.) चिकित्सा किया हुआ।

चिकित्स्य—(सं. वि.) चिकित्सा-योग्य, साध्य।

चिकिल—(सं. पुं.) कीचड़, पंक।

चिकीर्षा—(सं. स्त्री.) करने की इच्छा।

चिकीर्षित—(सं. वि.) जिसे करने की इच्छा या कामना की गई हो।

चिकीर्षु—(सं. वि.) करने की इच्छारखनेवाला।

चिकुटी—(हि. स्त्री.) देखें 'चुटकी'।

चिकुर—(सं. पुं.) सिर के बाल, केस, पर्वत, रंगनेवाले जन्तु, छछूंदर, गिलहरी; (वि.) चपल, चंचल।

चिकोटी—(हि. स्त्री.) देखें 'चुटकी'।

चिकक—(सं. पुं.) छछूंदर; (वि.) चिपटी नाकवाला।

चिककट—(हि. पुं.) तेल आदि की या गर्दे की जमी हुई मैल, कीट; (वि.) मैला-गुनैला।

चिककण—(सं.वि.) चिकना; (पुं.) सुपारी का वृक्ष या फल ।
 चिककणा—(सं. स्त्री.) सुपारी ।
 चिककन—(हि. वि.) चिककण, चिकना ।
 चिककरना—(हि. क्रि. अ.) चिघाड़ना ।
 चिककस—(सं.पुं.) जब का आटा, बलबल के बैठने का लोहे, पीतल आदि का बना हुआ अड़डा ।
 चिकका—(सं. स्त्री.) सुपारी, चूहा; (हि. पुं.) चक्का ।
 चिककार—(हि. पुं.) देखें 'चिकार' ।
 चिककारा—(हि. पुं.) देखें 'चिकार' ।
 चिखना—(हि. पुं.) चाट ।
 चिखर—(हि.पुं.) चने का छिलका या भूसी ।
 चिखुरन—(हि. स्त्री.) घास जो खेत से निराकर निकाली जाती है ।
 चिखुरना—(हि.क्रि.स.) जोते हुए खेत में से घास-पात हटाना ।
 चिखुरा—(हि. पुं.) गिलहरी ।
 चिखुरी—(हि. स्त्री.) भावा गिलहरी ।
 चिखानी—(हि.स्त्री.) स्वाद लेने की क्रिया, स्वाद लेने की वस्तु, स्वाद की थोड़ी-सी वस्तु ।
 चिचड़ा—(हि. पुं.) एक पौधा जिसकी जड़ तथा पत्तियाँ औषधों में प्रयुक्त होती है, अपामार्ग, लटजीरा, एक कोड़ा जो चौपायों के शरीर में चिपटकर उनका लोह चूसता है, किलनी ।
 चिचड़ी—(हि. स्त्री.) किलनी, कुकुरौंछी, अपामार्ग ।
 चिचान—(हि. पुं.) श्येन, बाज पक्षी ।
 चिचाना—(हि. क्रि. अ.) चिचियाना ।
 चिचिगा—(हि. पुं.) देखें 'चिचिडा' ।
 चिचिडा—(हि. पुं.) एक लता जिसमें लंबे फल लगते हैं और जिसकी तरकारी बनती है, चिचडा ।
 चिचियाना—(हि.क्रि.अ.) चिल्लाना, चीखना ।
 चिचियाहट—(हि.स्त्री.) देखें 'चिल्लाहट' ।
 चिचुकना—(हि.क्रि.अ.) देखें 'चुचुकना' ।
 चिचोड़ना—(हि.क्रि.स.) देखें 'चचोड़ना' ।
 चिजारा—(हि. पुं.) राजगीर, मेमार ।
 चिट—(हि. स्त्री.) कागज, कपड़े आदि के छोटे टुकड़े ।
 चिटकना—(हि.क्रि.अ.) लक्षता या ताप से ऊपरी तल पर दरार होना, गेंटीली लकड़ी का जलते समय चिट-चिट करना, चिढ़ना, विगड़ना ।
 चिटकाना—(हि.क्रि.स.) किसी सूखे पदार्थ को तोड़ना या तड़काना, खिजलाना, चिड़ाना ।
 चिटनवीस—(हि. पुं.) चिट्ठी-पत्री,

हिसाब-किताब लिखनेवाला लिपिक ।
 चिटकी—(हि. स्त्री.) देखें 'चुटकी' ।
 चिट्ट—(हि. स्त्री.) देखें 'चिट' ।
 चिट्टा—(हि. पुं.) झूठा बढ़ावा, किसी को कोई कार्य करने के लिये ऐसी उत्तेजना देना जिससे उसकी हानि हो; (मुहा.) -लड़ाना-उत्तेजना देना, बढ़ावा देना ।
 चिट्ठा—(हि. पुं.) हिसाब का बही-खाता, साल भर का हिसाब-किताब का लेखा, सूची, खर्च का विवरण, व्योरा, वेतन या मजदूरी; (मुहा.) -चाँचना-लेखा तैयार करना; कच्चा चिट्ठा—(पुं.)विस्तारपूर्वक वर्णन जिसमें कोई बात न छिपाई गई हो ।
 चिट्ठी—(हि. स्त्री.) कागज की वह टुकड़ी जिसमें कहीं भेजने के लिये समाचार इत्यादि लिखा हो, माल का दाम लिखा हुआ पुरजा, छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर कुछ लिखा हो, आज्ञापत्र, निमन्त्रण-पत्र, किसी वस्तु आदिके अधिकार का निर्णय करने के लिये लोगों के नाम अलग-अलग छोटे-छोटे कागज के टुकड़ों पर लिखकर, इनको मोड़कर और गोली बनाकर किसी बालक से एक गोली उठवाली जाती है और जिसके नाम की गोली उठती है वह व्यक्ति कोई निर्दिष्ट वस्तु या धन पाता है; -पत्री—(स्त्री.) पत्रव्यवहार; -रसां—(पुं.) चिट्ठी बाँटनेवाला डाकिया ।
 चिट्चिड़ा—(हि. पुं.) चिचड़ा, अपामार्ग, एक भूरे रंग का छोटा पक्षी; (वि.) थोड़ी-सी बात पर अप्रसन्न होनेवाला, जल्दी चिढ़नेवाला ।
 चिट्चिड़ाना—(हि. क्रि. अ.) गीली लकड़ी का जलते समय चिट-चिट शब्द करना, सूखकर फट जाना, चिढ़ना, झूँझलाना ।
 चिट्चिड़ान—(सं. पुं.) चिढ़ने का स्वभाव या प्रवृत्ति ।
 चिट्चिड़ाहट—(हि. स्त्री.) चिढ़ने की क्रिया या भाव ।
 चिट्ठा—(हि. पुं.) हरे धान को कूटकर चिपटा किया हुआ दाना, चिउड़ा ।
 चिट्टा—(हि. पुं.) चटक, गौरैया पक्षी ।
 चिट्टिया—(हि. स्त्री.) पक्षी, आकाश में उड़नेवाला जीव, पंछी, पखेरू, चिट्टिया के आकार का लकड़ी का टुकड़ा जो लँगडों की टेकने की बैसाखी पर जड़ा रहता है, ताश में चिट्टी के पत्ते, तराजू की डंडी में लगा हुआ लोहे का टुकड़ा; (मुहा.) -का दूध-अलम्ब पदार्थ; तोनेकी चिट्टिया-अत्यन्त सुन्दर व्यक्ति, खूब धन देनेवाला असाफी; -खाना—(पुं.) वह

स्थान जिसमें नाना प्रकार के पशु-पक्षी देखने के लिये पाले जाते हैं; -वाला—(पुं.) मूख, जड़, निर्बुद्धि ।
 चिट्टिहार, चिट्टीमार—(हि. पुं.) बहेलिया, व्याघ ।
 चिट्टी—(हि. स्त्री.) चिट्टिया, ताश का एक रंग ।
 चिट्ट—(हि. स्त्री.) क्रोध सहित अप्रसन्नता, कुड़न, खिजलाहट, विरक्ति; (मुहा.) -निकालना-कुड़ाना, खिजलाने या चिट्टाने का ढंग निकालना ।
 चिट्टकना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'चिट्टना' ।
 चिट्टकाना—(हि.क्रि.स.) देखें 'चिट्टाना' ।
 चिट्टना—(हि.क्रि.अ.) अप्रसन्न होना, कुड़ना, विरक्त होना, झल्लाना, बुरा मानना, द्वेष करना ।
 चिट्टवाना—(हि. क्रि. स.) चिट्टाने का काम दूसरे से कराना ।
 चिट्टाना—(हि. क्रि. स.) अप्रसन्न करना, कुड़ाना, खिजलाना, कुपित और खिन्न करना, किसी को खिजलाने के लिये मुँह बनाना, हाथ चमकाना या और किसी प्रकार की चेष्टा करना, उपहास करना, ठट्ठा करना; (मुहा.) मुँह चिट्टाना-किसी को कुड़ाने या खिजलाने के लिये मुँह की ब्यंगपूर्ण आकृति बनाना ।
 चित्त—(सं. स्त्री.) चेतना, ज्ञान, चित्त-वृत्ति, अग्नि; (पुं.) संस्कृत का अनि-श्चयसूचक शब्द ।
 चित्त—(सं. वि.) इकट्ठा या ढेर किया हुआ, ढका हुआ; (हि. पुं.) चित्त, चित्त-वन, दृष्टि; (हि.वि.) पीठ के बल पड़ा हुआ, उत्तान; (मुहा.) -करना-मल्ल-युद्ध में पटकना; चित्त-पट करना-तै कर डालना, निपटा देना; -होना-अचेत होना; चारों साने चित्त-हाथ पंर फैलाये हुए पीठ के बल पड़ा हुआ, हक्का-बक्का, बेहोश ।
 चित्तकवरा—(हि.वि.) रंग-विरंगा, कवरा, चितला ।
 चित्तकूट—(हि. पुं.) देखें 'चित्रकूट' ।
 चित्तचोर—(हि. पुं.) चित्त को चुरानेवाला, मन को लुभानेवाला, प्यारा, प्रिय, मनोहर ।
 चित्तपट—(हि. पुं.) मल्लयुद्ध ।
 चित्तसंग—(हि. पुं.) ध्यान न लगना, उदासी, मतिभ्रम, बुद्धि का नाश नन, का ठिकाने न रहना ।
 चित्तरनहार—(हि. पुं.) चित्रण करनेवाला ।
 चित्तरना—(हि. क्रि. स.) चित्र बनाना, नकाशी करना ।
 चित्तरवा—(हि. पुं.) चित्रक पक्षी, एक

प्रकार की लाल चिटिया ।

चितला-(हि. वि.) चित्रकवरा, रंग-विरंगा, एक प्रकार का लखनावा नारवृजा, एक प्रकार की मछली ।

चितवन-(हि. स्त्री.) देखने का ढंग, दृष्टि, कटाक्ष; (गुहा.)-चढ़ाना-मों चढ़ाना ।

चितवना-(हि.क्रि.स.) दृष्टि डालना, देखना ।

चितवनि-(हि. स्त्री.) देखें 'चितवन' ।

चितवाना-(हि.क्रि.स.) दिखाना, तकाना ।

चिता-(सं. स्त्री.) लकड़ी का ढेर जिस पर शव जलाया जाता है, श्मशान, मरघट; (गुहा.)-पर चढ़ना-सती होना ।

चिताना-(हि. क्रि. स.) सचेत करना, सावधान करना, किसी ओर चित्त आकर्षण करना, स्मरण कराना, याद दिलाना, जलाना, आग मुलगाना ।

चिताभूमि-(सं. स्त्री.) श्मशान ।

चितारोहण-(सं. पुं.) सती होने के लिए चिता पर चढ़ना ।

चितान्वनी-(हि. स्त्री.) सावधान करने की क्रिया, पहिले से सावधान होने के लिये कही गयी बात ।

चिति-(सं. स्त्री.) चिता, ढेर, संग्रह, एकत्र करने का कार्य, यज्ञ में अग्नि का एक संस्कार, इंटों की जोड़ई, चैतन्य, दुर्गा ।

चितिका-(सं. स्त्री.) भेखला, करवनी ।

चितिव्यवहार-(सं. पुं.) गणित द्वारा घर में लगी हुई इंटों की संख्या निकालने की विधि ।

चितु-(हि. पुं.) देखें 'चित्त' ।

चितेरा-(हि.पुं.) चित्रकार, चित्र बनानेवाला ।

चितेरिन, चितेरी-(हि. स्त्री.) चित्र बनानेवाली स्त्री, चित्रकार की पत्नी ।

चितेला-(हि. पुं.) देखें 'चितेरा' ।

चितोन, चितौनि-(हि.स्त्री.) देखें 'चितवन' ।

चित्कार-(हि. पुं.) देखें 'चित्कार' ।

चित्त-(सं. पुं.) अंतःकरण की एक वृत्ति, जी, मन; (गुहा.)-उचटना-मन न लगना; -करना-जी चाहना; -चोराना-मोहित करना; -देना-ध्यान लगाना; -धरना-ध्यान देना; -बेटना-चित्त एताग्र न रहना; -बैठाना-ध्यान एक ओर न रहना; -लगना-जी चाहना; -से उतरना-भूल जाना; -होना-दृष्टा करना ।

चित्त-(सं. पुं.) चित्त से उत्पन्न, कामदेव ।

चित्तभूमि-(सं. पुं.) कामदेव ।

चित्तभूमि-(सं. स्त्री.) योग में चित्त की तीन परतयाएँ-क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एताग्र और निरुद्ध ।

चित्तच-(हि. पुं.) एक प्रकार का हृदिन,

चितल ।

चित्तवान्-(सं. वि.) उदार चित्त का ।

चित्तविक्षेप-(सं. पुं.) मन की चंचलता या अस्थिरता ।

चित्तविप्लव-(सं. पुं.) उन्माद ।

चित्तविभ्रम-(सं.पुं.) भ्रम, भ्रान्ति, उन्माद ।

चित्तवृत्ति-(सं. स्त्री.) चित्त की गति, चित्त की अवस्था ।

चित्ताकर्षक-(सं. वि.) मन को आकर्षण करने या लुभानेवाला ।

चित्तापहारक-(सं. वि.) रुचिर, सुन्दर, मनोहर ।

चित्ति-(सं. स्त्री.) ह्यति, बुद्धि ।

चित्ती-(हि. स्त्री.) छोटा घव्वा या चिह्न, वृंदकी, मादा लाल पक्षी, अजगर की जाति का एक प्रकार का मोटा साँप, कुम्हार के चाक का गड्ढा जिसमें डंडा डालकर यह घुमाया जाता है, चिपटी पीठ की कोड़ी; (क्रि. प्र.)

-पड़ना-काले घव्वे पड़ना ।

चित्तीर-(हि.पुं.) उदयपुर के महाराजाओं की प्राचीन राजधानी ।

चित्य-(सं.वि.) चिता संबंधी; (पुं.) अग्नि ।

चित्र-(सं. पुं.) मस्तक पर चन्दन आदि से लगाया हुआ चिह्न, तिलक, कागज, कपड़े आदि पर अनेक रंगों के मेल से बनी हुई आकृति, काव्य के तीन अंगों में से एक, पदों के अक्षर इस क्रम से लिखे जाने की विधि जिससे हाथी, घोड़ा, रथ आदि का आकार बन जावे, एक प्रकार का वर्णवृत्त, आकाश, एक प्रकार का कुष्ठ रोग, चित्रगुप्त, अशोक का वृक्ष; (वि.) अद्भुत, विलक्षण, आश्चर्यजनक, रंग-विरंगा, चित्तकवरा, अनेक प्रकार का; (क्रि. प्र.)-उतारना-चित्र बनाना;

-कंठ-(पुं.) कपोत, कबूतर; -क-(पुं.) चीते का वृक्ष, चित्त, व्याघ्र, चिरायता, शूरवीर, चित्रकार; -कर-(पुं.) चित्रकार; -कर्मो-(पुं.) चित्रकार; -कला-(स्त्री.) चित्र बनाने की विद्या;

-कार-(पुं.) चित्र बनानेवाला; -फारी-(हि.स्त्री.) चित्रविद्या, चित्र बनाने की कला, चित्र बनाने का व्यवसाय; -काल्य-(पुं.) एक प्रकार का काव्य जिसके चरणों को क्रम से लिखने पर कोई विशेष चित्र बन जाता है; -कुंडल-(पुं.) वृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; -कूट-(पुं.) एक पर्वत जिसपर सीता और राम ने वन-यान के समय बहुत दिनों तक निवास किया था; -केतु-(पुं.) उदमण के एक

पुत्र का नाम; -कोण-(पुं.) कुटकी नामक औषधि; -गंध-(पुं.) हरताल; -गुप्त-(पुं.) चौदह यमदूतों में से एक जो प्रत्येक प्राणी के पाप-पुण्य का लेखा रखते हैं; -घंटा-(स्त्री.) नव दुर्गाओं में से एक का नाम; -चाप-(पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; -जल्प-(पुं.) वे अभिमान-पूर्ण वाक्य जो नायक और नायिका लूठकर आपस में कहते हैं; -तंडुल-(पुं.) वायविडंग; -ताल-(पुं.) संगीत में एक प्रकार का चीताला ताल; -तल-(पुं.) रेंडी का तेल; -देव-(पुं.) कार्तिकेय का अनुचर; -धाम-(पुं.) अनेक रंगों से भरा हुआ सर्वतोभद्र नामक चौखूटा चक्र; -नेत्रा-(स्त्री.) सारिका, मैना;

-पक्ष-(पुं.) तित्तिर पक्षी, तीतर; -पट-(पुं.) रजत-पट, कागज या कपड़े का टुकड़ा जिसपर चित्र बनाया जाता है; -पत्र-(पुं.) आँख की पुतली के पीछे मस्तिष्क का वह भाग जिसपर दिखाई देनेवाले पदार्थों का प्रतिबिम्ब पड़ता है; (वि.) रंग-विरंगे परोवाला; -पदा-(स्त्री.) एक प्रकार का छन्द, सारिका, मैना, लजाल या छुई-मुई नामक पौधा; -पर्णी-(स्त्री.) मजीठ, जलपिप्पली; -पादा-(स्त्री.) सारिका, मैना; -पिच्छक-(पुं.) मयूर, मोर; -पुंख-(पुं.) वाण, तीर; -पुट-(पुं.) एक प्रकार का छताला ताल;

-पुष्प-(पुं.) एक प्रकार की घास; -पृष्ठ-(पुं.) चटक, गौरैया पक्षी; -फल-(पुं.) एक प्रकार की मछली, तरवृज; -फला-(स्त्री.) ककड़ी, बैंगन, भटकटैया; -वहं-(पुं.) मयूर, मोर; -भानु-(पुं.) अग्नि, सूर्य, मंदार का वृक्ष, शंख, अश्विनीकुमार, एक युग का नाम; -मद-(पुं.) नाटक आदि में किसी स्त्री का अपने प्रियतम का चित्र देखकर विरह-भाव दिखलाना; -मृग-(पुं.) चित्तकवरा हिरन; -मेखल-(पुं.) मयूर, मोर; -योग-(पुं.) वृद्ध का युवा अथवा युवा की वृद्ध या नपुंसक बनाने की कला; -योधी-(वि.) विचित्र युद्ध करनेवाला;

(पुं.) अर्जुन, अर्जुन नामक वृक्ष; -रथ-(पुं.) मयूर, एक गन्धर्व का नाम, श्रीकृष्ण के एक पौत्र का नाम; -रेखा-(स्त्री.) वाणापुर की कन्या उपा की एक सहेली का नाम; -रु-(वि.) रंग-विरंगा, चित्तकवरा; -ल्लसत-(पुं.) सुन्दर बच्चों की लिखावट, चित्र बनाने का कार्य; -लेखनी-(स्त्री.) चित्र बनाने की लेखनी

या कूंची; -लेखा-(स्त्री.) देखें 'चित्र-
रेखा', एक अप्सरा का नाम, तसवीर
वनाने की कूंची, एक वर्णवृत्त का नाम;
-लोचना-(स्त्री.) सारिका, मैना;
-वर्मा-(पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का
नाम; -विचित्र-(वि.) रंग-विरंगा,
अनेक रंगों का, बेल-बूटेदार; -विद्या-
(स्त्री.) चित्र बनाने की कला या विद्या;
-शाला-(स्त्री.) वह घर जहाँ चित्र
बनाये जाते हैं अथवा विकने या देखने
के लिये रखे हों; -शिवंडी-(पुं.) सप्त
ऋषियों के नाम जो-मरीचि, अङ्गिरा,
अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ
हैं; -शिर-(पुं.) एक गन्धर्व का नाम;
-संग-(पुं.) सोलह अक्षरों का एक वर्ण-
वृत्त; -सारी-(हि. स्त्री.) वह कमरा
जिसमें चित्र टंगे हों, विलास-भवन, सजा
हुआ सोने का कमरा; -सेन-(पुं.) एक
गन्धर्व का नाम, घृतराष्ट्र के एक पुत्र
का नाम; -हस्त-(पुं.) शस्त्र से आक्रमण
करने का एक हाथ।
चित्रना-(हि. क्रि. स.) चित्र बनाना।
चित्रांग-(सं. वि.) जिसका अंग चित्र-
विचित्र हों, जिससे अङ्ग पर धारियाँ या
चित्तियाँ हों; (पुं.) चित्रक नाम की
औषधि, ईगुर, हरताल।
चित्रांगद-(सं. पुं.) राजा शान्तनु के
एक पुत्र का नाम जो सत्यवती के गर्भ से
उत्पन्न हुए थे।
चित्रांगदा-(सं. स्त्री.) चित्रवाहन की
पुत्री जो अर्जुन को व्याही थी, रावण की
एक स्त्री का नाम।
चित्रांगी-(सं. स्त्री.) मजीठ, कनखजूरा
नामक कीड़ा।
चित्रा-(हि. स्त्री.) सत्ताईस नक्षत्रों में से
चौदहवाँ नक्षत्र, दन्ती नामक वृक्ष, चित्त-
कवरी गाय, सुमद्रा, वायविडंग, अज-
वाइन, एक अप्सरा का नाम, संगीत में
मूर्छना, एक रागिणी का नाम, पन्द्रह
अक्षरों का एक वर्णवृत्त, प्राचीन काल
का तार का एक प्रकार का वाजा, एक
छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सोलह
मात्राएँ होती हैं।
चित्राक्ष-(सं. वि.) विचित्र अथवा
सुन्दर नेत्रोंवाला।
चित्राक्षी-(सं. स्त्री.) सारिका, मैना।
चित्राटीर-(सं. पुं.) चन्द्रमा, शिव के
एक अनुचर का नाम।
चित्रायुध-(सं. पुं.) विलक्षण अस्त्र।
चित्रावसु-(सं. स्त्री.) नक्षत्रों से मंडित

रात्रि।
चित्रिक-(सं. पुं.) चैत का महीना।
चित्रिणी-(सं. स्त्री.) स्त्रियों के चार
भेदों में से एक।
चित्रित-(सं. वि.) चित्र द्वारा दिखलाया
हुआ, चित्र बना हुआ, जिस पर बेल-बूटे
वने हों या नकाशी हो, जिस पर धारियाँ
या चित्तियाँ हों।
चित्री-(सं. वि.) चित्रयुक्त, चितकवरा।
चित्रीकरण-(सं. पुं.) चित्रण करने की
क्रिया, चित्रित करना।
चित्रेश-(सं. पुं.) चन्द्र, चन्द्रमा।
चित्रोक्ति-(सं. स्त्री.) अलंकारिक भाषा
में वर्णन।
चित्रोत्तर-(सं. पुं.) वह काव्यालंकार
जिसमें प्रश्न के शब्दों में उत्तर हो अथवा
अनेक प्रश्नों का उत्तर एक ही में हो।
चित्र्य-(सं. वि.) पूज्य, इकट्ठा करने योग्य।
चित्र्यड़ा-(हि. पुं.) फटा-पुराना वस्त्र,
लत्ता, कपड़े की घञ्जी; (मुहा.)
-लपेटना-फटे-पुराने वस्त्र पहिनना।
चित्र्याङ्गना-(हि. क्रि. स.) चीरना, फाड़ना,
घञ्जी करना, टुकड़े-टुकड़ करना,
लज्जित करना।
चिदाकाश-(सं. पुं.) परम ज्ञानस्वरूप
परमेश्वर।
चिदात्मा-(सं. पुं.) चैतन्य रूप परब्रह्म।
चिदानन्द-(सं. पुं.) चैतन्य और आनन्द-
रूप परब्रह्म।
चिदाभास-(सं. पुं.) चैतन्यरूप परब्रह्म
का आभास या बोध जो मनुष्य के
अन्तःकरण में होता है, जीवात्मा।
चिद्रप-(सं. पुं.) ज्ञानमय परब्रह्म।
चिद्रिलास-(सं. पुं.) चैतन्य रूप ईश्वर की
माया, शंकराचार्य के एक शिष्य का नाम।
चिन-(हि. पुं.) एक बहुत बड़ा पहाड़ी
वृक्ष, एक घास जिसको चौपाये बड़ी
रुचि से खाते हैं।
चिनक-(हि. पुं.) जलनयुक्त पीड़ा, चुन-
चुनाहट।
चिनगटा-(हि. पुं.) चियड़ा।
चिनगारी-(हि. स्त्री.) जलती हुई अग्नि
का छोटा कण, स्फुल्लिङ्ग, अग्नि कण;
(मुहा.) आँखों से चिनगारी छूटना-
क्रोध के कारण आँखें लाल होना;
-छोड़ना-ऐसी बात कहना जिससे कोई
झगड़ा खड़ा हो जावे; -डालना-आग
लगाना, झगड़ा लगाना।
चिनगी-(हि. स्त्री.) चिनगारी; (पुं.)
चतुर वालक, नट के साथ का लड़का।

चिनना-(हि. क्रि. स.) भीत उठाना, चुनना।
चिनाना-(हि. क्रि. स.) दिनवाना, चुन-
वाना, ईंट की जोड़ाई कराना।
चिनिया-(हि. वि.) चीनी के रंग का, सफेद,
चीन देश का, चीनी; -केला-(पुं.)
छोटी जात का बहुत मीठा केला;
-घोड़ा-(पुं.) वह घोड़ा जिसके चारों
पैर श्वेत हों और शरीर में लाल और
श्वेत धब्बे हों; -बादाम-(पुं.) भूंगफली।
चिन्न-(सं. पुं.) चणक, चना।
चिन्मय-(सं. वि.) ज्ञानमय; (पुं.)
परमेश्वर।
चिन्ह-(हि. पुं.) देखें 'चिह्न'।
चिन्हवाना, चिन्हाना-(हि. क्रि. स.)
परिचित कराना, पहिचनवाना, ठीक-
ठीक लक्षण बतला देना।
चिन्हाटी-(हि. स्त्री.) देखें 'चिह्नाती'।
चिन्हानी-(हि. स्त्री.) पहिचान; लक्षण,
चिह्नाने की वस्तु, स्मारक, चिह्न, घारी,
लकीर।
चिन्हार-(हि. वि.) परिचित, जिससे
ज्ञान-पहिचान हो, ज्ञान-पहिचान का।
चिन्हारी-(हि. स्त्री.) परिचय।
चिन्हित-(हि. वि.) देखें 'चिह्नित'।
चिपकना-(हि. क्रि. अ.) दोपदार्यों का
परस्पर जुटना या सटना, चिमटना,
लिपटना, व्यवसाय में लगना, स्त्री-पुरुष
का परस्पर प्रेम में फँसना।
चिपकाना-(हि. क्रि. स.) दो वस्तुओं को
परस्पर जोड़ना या सटाना, चिमटाना,
लिपटाना, आलिङ्गन करना, काम-धँचे
में लगाना।
चिपचिप-(हि. पुं.) लसदार वस्तु के छूने
से चिपकने का शब्द या अनुभव।
चिपचिपा-(हि. वि.) लसदार, लसीला,
चिपकनेवाला।
चिपचिपाना-(हि. क्रि. अ.) लसदार ज्ञात
होना, छूने से चिपचिपा मालूम होना।
चिपचिपाहट-(हि. स्त्री.) लसलाहट,
चिपचिपा होना।
चिपटना-(हि. क्रि. अ.) चिपकना, चिम-
टना, सटना।
चिपटा-(हि. वि.) जिसका कोई भाग
उमड़ा न हो, जिसका तल या स्तर दबा
हुआ तथा बराबर फैला हो।
चिपटाना-(हि. क्रि. स.) चिपकाना,
सटाना, लिपटाना, आलिङ्गन करना,
चिपटा करना।
चिपटी-(हि. वि. स्त्री.) देखें 'चिपटा';
(स्त्री.) एक प्रकार की कान में पहिचने

की बान्नी, भग, योनि; (मुहा.)
 -नेलना-कामानुर होकर दो स्त्रियों का
 परस्पर योनि से योनि घिसना।
 चिपड़ा-(हि. वि.) जिसकी आंख से
 अधिक कीमत् निकलता हो।
 चिपड़ी, चिपरी-(हि. स्त्री.) गोबर को
 गानकर मुगाये हुए टुकड़े, उपली, गोहरी।
 चिपिट, चिपिटक-(हि. वि., पुं.) चिपटी
 नाक का (मनुष्य), चिड़वा।
 चिपीटक-(सं. पुं.) चिड़ड़ा, चिड़वा।
 चिप्प-(सं.पुं.) एक प्रकार का नख का रोग।
 चिप्पड़-(हि. पुं.) छाल आदि का छोटा
 चिटा टुकड़ा, पपड़ी, छीलकर निकाला
 हुआ टुकड़ा।
 चिप्पिका-(सं. स्त्री.) एक प्रकार की
 चिड़िया।
 चिप्पी-(हि. स्त्री.) देखें 'चिप्पड़'।
 चिचिल्ला-(हि. वि.) देखें 'चिलविला'।
 चिचुक-(सं. पुं.) ठुड़ी, ठोड़ी।
 चिमगादड़-(हि. पुं.) देखें 'चमगादड़'।
 चिमटना-(हि. क्रि. अ.) चिपकना, सटना,
 लिपटना, आलिंगन करना, गुथना, कस-
 कर पकड़ना, पीछा न छोड़ना, पीछे
 पड़ना।
 चिमटवाना-(हि. क्रि. स.) चिमटाने का
 काम दूसरे से कराना।
 चिमटा-(हि. पुं.) घातु की दो पट्टियों से
 बना हुआ झोजार जो जलते हुए अंगारे
 इत्यादि उठाने के काम आता है।
 चिमटाना-(हि. क्रि. स.) सटाना, आलि-
 गन करना, लिपटाना, चिपकाना।
 चिमटी-(हि. स्त्री.) छोटा चिमटा, सोनारों
 का तार इत्यादि मोड़ने का उपकरण।
 चिमड़ा-(हि. वि.) देखें 'चिमड़'।
 चिमनी-(अं. स्त्री.) इंजन, मातान, कार-
 गाने आदि में से घुमां बाहर निकालने-
 वाली नली, लालटेन में की छेददार
 घनावट।
 चिमोटा-(हि. पुं.) देखें 'चमोटा'।
 चिरंजीव-(सं. वि.) चिरंजीवी, अनेक
 वर्षों तक जीवित रहनेवाला; (पुं.)
 आभीर्वाद् का मन्त्र।
 चिरंजीवी-(हि. वि.) देखें 'चिरंजीव'।
 चिरंटी-(हि. स्त्री.) मिता के घर रहने-
 वाली अधिक बय की कन्या, युवती।
 चिरंतन-(सं. वि.) पुरातन, बहुत दिनों
 का पुराना।
 चिर-(सं. वि.) बहुत दिनों तक रहने-
 वाला, चिराय, चिराय; (प्रथम.)
 अक्षय अमर तक; (पुं.) तीन माघाश्रं

का एक गण जिसका पहिला वर्ण लघु हो।
 चिरई-(हि. स्त्री.) चिड़िया, पक्षी।
 चिरकडाँस-(हि. स्त्री.) हमेशा रोगी
 रहने की अवस्था।
 चिरकना-(हि. क्रि. अ.) कई बार थोड़ा-
 थोड़ा करके मल निकलना।
 चिरकांक्षित-(सं. वि.) जिसकी चाह या
 कामना बहुत दिनों से मन में हो।
 चिरकारी-(सं. वि.) दीर्घसूत्री, सब कामों
 में देर करनेवाला।
 चिरकाल-(सं.पुं.) दीर्घकाल, बहुत समय।
 चिरकालिक, चिरकालीन-(सं. वि.) बहुत
 दिनों का, सदा बना रहनेवाला।
 चिरकुट-(हि. पुं.) फटा-पुराना वस्त्र,
 गुदड़, चियड़ा।
 चिरकुमार-(सं. वि.) आजीवन अवि-
 वाहित रहनेवाला।
 चिरक्रियता-(सं. स्त्री.) दीर्घसूत्रता।
 चिरक्रिया-(सं. वि.) दीर्घसूत्री, काम में
 विलम्ब करनेवाला।
 चिरचना-(हि. क्रि. अ.) चिड़चिड़ाना।
 चिरचिटा-(हि.पुं.) चिड़ड़ा, अपामार्ग।
 चिरचिरा-(हि. वि.) देखें 'चिड़चिड़ा'।
 चिरजीवक-(सं. वि.) देखें 'चिरजीवी'।
 चिरजीवी-(सं.वि.) दीर्घजीवी, बहुत दिनों
 तक जीनेवाला, अमर; (पुं.) विष्णु,
 कांवा, माकण्डेय ऋषि, सेमल का वृक्ष।
 चिरत्न-(सं.वि.) पुरातन, प्राचीन, पुराना।
 चिरना-(हि. क्रि. अ.) फटना, एक सीव या
 लकीर में कटना, लकीर की तरह फटना;
 (पुं.) चीरने का अस्त्र।
 चिरनिद्रा-(सं. स्त्री.) महानिद्रा, मृत्यु।
 चिरनूतन-(सं.वि.) जो सदा नूतन बना रहे।
 चिर-परिचित-(सं. वि.) बहुत दिनों का
 परिचित।
 चिरपाकी-(सं. पुं.) कपित्थ, कैथ।
 चिरपुष्प-(सं. पुं.) मौलसिरी, वकुल।
 चिरपोषित-(सं. वि.) चिरकांक्षित।
 चिर-प्रचलित-(सं. वि.) बहुत दिनों से
 प्रचलित।
 चिरवती-(हि. वि.) टुकड़ा-टुकड़ा; (क्रि.
 प्र.) -कर देना-फाड़कर टुकड़े-टुकड़े
 करना।
 चिरमिटी-(हि. स्त्री.) गुंजा, घुंघुची।
 चिर-रोगी-(सं.वि.) बहुत दिनों का रोगी।
 चिरबल-(हि. पुं.) एक पौधा जिसकी जड़
 की छाल से मुन्दर लाल रंग निकलता है।
 चिरवाई-(हि. स्त्री.) चीरने या चिरवाने
 का कार्य या पारिश्रमिक।
 चिरवाना-(हि. क्रि. स.) फड़वाना, चीरने

का कार्य दूसरे से कराना।
 चिर-विरह-(सं. पुं.) चिरकाल से बना
 हुआ विरह।
 चिर-विस्मृत-(सं. वि.) बहुत दिनों का
 भूला हुआ।
 चिर-वैर-(सं. पुं.) पुरानी दुश्मनी।
 चिर-शत्रु-(सं. पुं.) पुराना शत्रु।
 चिर-शत्रुता-(सं. स्त्री.) चिर-वैर।
 चिर-शांति-(सं. स्त्री.) स्थायी शांति।
 चिर-संगी-(सं. पुं.) सदा का साथी।
 चिरस्थायी-(सं. वि.) बहुत दिनों या
 चिर काल तक ठहरनेवाला।
 चिरस्मरणीय-(सं. वि.) बहुत दिनों तक
 याद रखने योग्य, प्रशंसा-योग्य, पूजनीय।
 चिरहूँटा-(हि. पुं.) चिड़ीमार, व्याध,
 बहेलिया।
 चिरांदा-(हि. वि.) थोड़ी-सी बात पर
 चिढ़नेवाला।
 चिराइता-(हि. पुं.) देखें 'चिरायता'।
 चिराइन-(हि. स्त्री.) चिरायेंध।
 चिराई-(हि. स्त्री.) चीरने की क्रिया
 या मजदूरी, चिरवाई।
 चिराक-(हि. पुं.) देखें 'चिराग'।
 चिराग-(फा. पुं.) दीया, दीपक;
 -जले-(अव्य.) दीया लगने के बाद।
 चिराग-दान-(फा. पुं.) दीया रखने का
 आधान, दीपाधार।
 चिरागी-(फा. स्त्री.) कन्न, मस्जिद आदि
 में दीया जलाने की क्रिया का खर्च,
 मजार पर चढ़ाई जानेवाली भेंट।
 चिरातन-(हि. वि.) फटा-पुराना।
 चिराद-(सं. पुं.) गरुड़, बत्तक की जाति
 का एक पक्षी।
 चिरान-(हि. पुं.) चीरी हुई लकड़ी,
 चीरने की क्रिया।
 चिराना-(हि. क्रि. स.) चिरवाना।
 चिरायेंध-(हि. स्त्री.) चमड़े, बाल आदि
 के जलने से उत्पन्न दुर्गन्ध; (मुहा.)
 -फैलाना-बदनाम करना।
 चिरायता-(हि. पुं.) एक कड़ुआ पौधा जो
 औषध में प्रयोग होता है।
 चिरायु-(सं. वि.) अधिक बय का,
 दीर्घायु, बहुत दिनों तक जीनेवाला।
 चिरारी-(हि. स्त्री.) चिरौजी का वृद्ध।
 चिराव-(हि. पुं.) चीरने का भाव या
 क्रिया, चीरने से उत्पन्न घाव या क्षत।
 चिरिया-(हि. स्त्री.) चिड़िया, पक्षी।
 चिरिहार-(हि. पुं.) व्याध, बहेलिया।
 चिरी-(हि. स्त्री.) देखें 'चिड़िया'।
 चिरु-(सं.पुं.) कन्धे और बांह का जोड़, मोड़ा।

चिरंता—(हि. पुं.) देखें 'चिरायता'।
 चिरैया—(हि. स्त्री.) देखें 'चिड़िया'।
 चिरौंटा—(हि. पुं.) गौरैया पक्षी।
 चिरौंजी—(हि. स्त्री.) पियाल नामक वृक्ष के फलों के बीज की गिरी।
 चिरौरी—(हि. स्त्री.) दीनतापूर्ण बिनती।
 चिर्भंटी—(सं. स्त्री.) ककड़ी।
 चिलक—(हि. स्त्री.) धुति, कान्ति, आभा, झलक, चमक, टीस, रह-रहकर होने वाली पीड़ा।
 चिलकना—(हि. क्रि. अ.) रह-रहकर पीड़ा होना, चमकना, चमचमाना।
 चिलका—(हि. पुं.) चमकता हुआ चाँदी का रूपया।
 चिलकाना—(हि. क्रि. स.) चमकाना, मांज-कर सफेद करना।
 चिलचिल—(हि. पुं.) अन्नक, अवरख।
 चिलचिलाना—(हि. क्रि. अ.) चमकना।
 चिलड़ा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्वान्न, उलटा।
 चिलता—(हि. पुं.) एक प्रकार का कवच।
 चिलविल—(हि. पुं.) एक प्रकार का जंगली वृक्ष।
 चिलबिला, चिलबिल्ला—(हि. वि.) चपल, चंचल।
 चिलम—(फा. स्त्री.) मिट्टी या धातु का कटोरीनुमा नलीदार पात्र जिसपर तंबाकू जलाकर धुआँ पीते हैं।
 चिलमचट—(हि. वि.) अधिक तमाकू पीनेवाला, चिलम पर का सब तमाकू पी जानेवाला।
 चिलमची—(फा. स्त्री.) देग के आकार का एक पात्र या बरतन।
 चिलमिलिका—(सं. स्त्री.) गले में पहिने का एक प्रकार का आभूषण, जुगनू, विजली।
 चिलमोलिका—(सं. स्त्री.) खद्योत, जुगनू, विजली।
 चिलवांस—(हि. पुं.) चिड़ियों को फँसाने का एक प्रकार का फन्दा।
 चिल्लड़—(हि. पुं.) पसीने से गंदे कपड़ों में पड़नेवाला जूँ की तरह का एक सफेद कीड़ा।
 चिल्ल-पों—(हि. स्त्री.) चिल्लाने का शब्द, दोहाई, पुकार, जनरव।
 चिल्लवाना—(हि. क्रि. स.) चिल्लाने में प्रवृत्त करना, चिल्लाने का काम दूसरे से कराना।
 चिल्लाना—(हि. क्रि. अ.) हल्ला मचाना।
 चिल्लाहट—(हि. स्त्री.) कोलाहल, हल्ला।
 चिल्लिका—(सं. स्त्री.) दोनों भीहों के बीच का स्थान, भ्रुकुटी।
 चिल्ली—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का कीड़ा,

विजली, वज्र, वयुआ नामक शाक जिसके पत्ते छोटे होते हैं।
 चिल्ली—(हि. स्त्री.) चील नामक पक्षी।
 चिवि—(सं. स्त्री.) चिवुक, ठुड्डी।
 चिविट—(सं. पुं.) चिउड़ा, चिड़वा।
 चिवुक—(सं. पुं.) ठुड्डी, ठोड़ी।
 चिहुक—(हि. पुं.) पक्षी की बोली।
 चिहुकार—(हि. स्त्री.) चहक।
 चिहुक—(हि. स्त्री.) डर, खटका।
 चिहुकना—(हि. क्रि. अ.) चींकना।
 चिहुटना—(हि. क्रि. स.) चिकोटी काटना, लिपटना, चिपटना; (मुहा.)—चित्त चिहुटना—मन में क्षोभ उत्पन्न होना, मर्म को वेधना।
 चिहुटनी—(हि. स्त्री.) गुंजा, घुंघची।
 चिहुटो—(हि. स्त्री.) चुटकी, चिकोटी।
 चिहुर—(हि. पुं.) सिर के बाल, केश।
 चिह्न—(सं. पुं.) किसी वस्तु को पहिचानने का लक्षण, निशान, झण्डा, पताका, ध्वजा।
 चिह्नित—(सं. वि.) चिह्न किया हुआ।
 चीं, चीं-चीं—(हि. स्त्री.) पक्षियों के वच्चों का धीमा शब्द, मधुर, धीमे शब्द में बोलना; (मुहा.)—बोलना—हार मानना, अयोग्यता प्रकट करना।
 चीं-चपड़—(हि. स्त्री.) किसी बड़े के विरोध में झुठ कहना या करना।
 चींटवा—(हि. पुं.) चींटा, च्यूंटा।
 चींटा—(हि. पुं.) चिउँटी से बड़े आकार का कीड़ा, चिउँटा।
 चींटी—(हि. स्त्री.) एक कीड़ा जो मीठी वस्तुओं पर बहुत जल्द लगता है, पिपीलिका, चिउँटी।
 चींतना—(हि. क्रि. स.) चित्रित करना।
 चींयना—(हि. क्रि. स.) चीयना, फाड़ना।
 चीक—(हि. स्त्री.) चित्कार, चीखने का शब्द, चिल्लाहट, कीच, कीचड़; (पुं.) कसाई, मांस बेचनेवाला।
 चीकट—(हि. पुं.) तेल की मैल, तलछट, लसदार मिट्टी, एक प्रकार का रेशमी वस्त्र; (वि.) बहुत मैला।
 चीकड़—(हि. पुं.) देखें 'कीचड़'।
 चीकना—(हि. क्रि. अ.) पीड़ा के कारण चिल्लाना, ऊँचे स्वर में बोलना।
 चीकर—(हि. पुं.) नहाने का होद जिसमें कुएँ से खींचा हुआ पानी भरा जाता है।
 चीख—(हि. स्त्री.) जोर से चिल्लाने की आवाज, चिल्लाहट।
 चीखना—(हि. क्रि. अ., स.) स्वाद लेने के लिये किसी पदार्थ को थोड़ा-सा खाना

या पीना, चीकना, जोर से चिल्लाना।
 चीखल—(हि. पुं.) कीच, कीचड़।
 चीखुर—(हि. पुं.) चिखुरा, गिलहरी।
 चीज—(फा. स्त्री.) वस्तु, सामग्री, सामान, द्रव्य, पदार्थ, महत्त्व की या विलक्षण वस्तु, वात आदि।
 चीठ—(हि. स्त्री.) कीट, मँल।
 चीठा—(हि. पुं.) देख 'चित्ठा'।
 चीठी—(हि. स्त्री.) देखें 'चिट्ठी'।
 चीड़—(हि. पुं.) एक प्रकार का देशी लोहा, एक पहाड़ी वृक्ष जिसमें से विरोजा निकलता है।
 चीड़—(हि. पुं.) एक पहाड़ी ऊँचा वृक्ष जिसमें से विरोजा नामक गोंद निकलता है, चीड़।
 चीत—(हि. पुं.) चित्त, मन, चित्रा नक्षत्र, सीसा नामक धातु, एक औषधि।
 चीतकार—(हि. पुं.) देखें 'चीत्कार', 'चित्रकार'।
 चीतना—(हि. क्रि. स.) सोच-विचार करना, याद करना, चेत करना, चित्रित करना, बेलबूटे काड़ना।
 चीतर, चीतल—(हि. पुं.) एक प्रकार का मृग जिसके शरीर पर श्वेत विन्दियाँ होती हैं, एक प्रकार का छोटा अजगर, एक प्रकार का सिक्का।
 चीता—(हि. पुं.) चित्रक, एक प्रकार का वाघ जिसकी पीठ पर चित्तियाँ या धब्बे होते हैं; एक प्रकार का पौधा जिसकी छाल और जड़ औषधों में प्रयुक्त होती हैं, हृदय, मन, होश-हवास; (वि.) सोचा-विचारा हुआ।
 चीत्कार—(सं. पुं.) चिल्लाने का शब्द, चिल्लाहट, हल्ला।
 चीयड़ा—(हि. पुं.) फटे-पुराने वस्त्र का छोटा टुकड़ा, चियड़ा; (मुहा.)—लपेटना—फटा-पुराना वस्त्र पहनना।
 चीयना—(हि. क्रि. स.) फाड़ना, टुकड़े-टुकड़े करना।
 चीयरा—(हि. पुं.) देखें 'चीयड़ा'।
 चीन—(सं. पुं.) झंडा, पताका, एक प्रकार का हिरन, एक प्रकार का अन्न, सूत, तागा, सीसा धातु, एक प्रकार का रेशमी वस्त्र, एशिया महाद्वीप के दक्षिण-पूर्व का एक प्रसिद्ध देश;—की दीवार—(हि. स्त्री.) चीन देश की १५०० मील लंबी इतिहास-प्रसिद्ध प्राचीन दीवार।
 चीनक—(सं. पुं.) चैना या कंगनी नामक अन्न, चीनी कपूर।
 चीनना—(हि. क्रि. स.) चीन्हना, पहि-

गानना ।

चीनपिट्ट—(सं. पुं.) सिन्दूर, सेंडुर ।
 चीनांगूर—(सं. पुं.) चीन से आनेवाला
 रंगमौ वस्त्र, एक प्रकार की लाल रंग की
 बनावत जो पहिले चीन से आती थी ।
 चीना—(हि. वि.) चीन देश का; (पुं.)
 चीनी, चीन का निवासी; -बादाम—
 (पुं.) मूंगफली ।
 चीनिया—(हि. वि.) चीन देश संबंधी,
 चीन देश का ।
 चीनी—(हि. पुं.) चीन देश का रहनेवाला,
 चीना, चीनी कपूर, एक प्रकार का श्वेत
 कयूतर; (वि.) चीन देश का, चीन
 सम्बन्धी; -कवाव—(स्त्री.) देखें 'कवाव-
 चीनी'; -का खिलौना—चीनी मिट्टी
 का बना हुआ खिलौना; -चंपा—
 (पुं.) एक प्रकार का अति मधुर
 छोटे आकार का केला; -मिट्टी—
 (स्त्री.) एक प्रकार की शुभ्र
 मिट्टी जिसके पात्र, खिलौने आदि
 बनते हैं ।
 चीनी—(हि. स्त्री.) ईख आदि के रस से
 बनाया हुआ चूर्ण, शक्कर ।
 चीन्ह—(हि. स्त्री.) देखें 'चिह्न' ।
 चीन्हना—(हि. क्रि. स.) पहचानना, परि-
 चय प्राप्त करना ।
 चीन्हा—(हि. पुं.) देखें 'चिह्न' ।
 चीप—(हि. स्त्री.) चिप्पड़ ।
 चीपड़—(हि. पुं.) आंख का कीचड़ ।
 चीमड़—(हि. वि.) जो खींचने या मोड़ने
 से न टूटे, चिमड़ा, लचीला ।
 चीमर—(हि. वि.) देखें 'चीमड़', चिमड़ा ।
 चीयां—(हि. पुं.) चियां, इमली का बीज ।
 चीर—(सं. पुं.) वस्त्र, कपड़ा, पुराने कपड़े
 का टुकड़ा, लत्ता, चियड़ा, गाय का धन,
 वृक्ष की छाल, चीड़ का पेड़, सीसा
 नामक धातु, चार लड़ियों की माला;
 (हि. स्त्री.) चीरने का भाव या क्रिया,
 दरार, मल्ल-युद्ध की एक युक्ति; -फाड़—
 (स्त्री.) फाँड़े, अंग आदि चीरने-फाड़ने
 का काम, गत्यकर्म ।
 चीरक—(सं. पुं.) विकृत लेग ।
 चीरना—(हि. क्रि. स.) विदीर्ण करना,
 फाड़ना; (मुहा.) माल चीरना—अनु-
 चित रीति से धन कमाना ।
 चीरपण—(सं. पुं.) साल का वृक्ष ।
 चीरपासा—(सं. पुं.) शिव, महादेव, यक्ष ।
 चीरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का लहरिया-
 दान संबंधी वस्त्र जिसकी पगड़ी बनेती है,
 सीर की सीसा पर गाढ़ हुआ पत्थर,

चीरकर बनाया हुआ घाव; (मुहा.)
 -उतारना—गुरूप का स्त्री के साथ
 पहिली बार का समागम ।
 चीरिका—(सं. स्त्री.) झींगुर, झिल्ली ।
 चीरी—(सं. पुं.) झींगुर; (हि. स्त्री.)
 पक्षी, चिड़िया ।
 चीर्ण—(सं. वि.) फटा या चिरा हुआ,
 किया हुआ, कृत ।
 चील—(हि. स्त्री.) वाज की जाति की एक
 चिड़िया; -झपट्टा—(पुं.) किसी वस्तु को
 झपटकर ले जाना, बच्चों का खेल
 विशप ।
 चीलड़, चीलर—(हि. पुं.) जूँ-की तरह का
 एक छोटा कीड़ा, चिल्लड़ ।
 चीलवा, चीला—(हि. पुं.) चिलड़ा, उलटा
 नामक पक्वान्न ।
 चीलिका—(सं. स्त्री.) भींगुर ।
 चीलू—(हि. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी मेवा ।
 चील्ह—(हि. स्त्री.) देखें 'चील' ।
 चील्हड़, चील्हर—(हि. पुं.) देखें 'चीलर' ।
 चील्ही—(हि. स्त्री.) बच्चों के कल्याण के
 लिये किया जानेवाला एक तन्त्रोपचार ।
 चीवर—(सं. पुं.) संन्यासियों या भिक्षुकों
 का फटा-पुराना वस्त्र ।
 चीवरी—(सं. पुं.) भिक्षुक, भिखमंगा ।
 चुंगना—(हि. क्रि. स.) देखें 'चुगना' ।
 चुंगल—(हि. पुं.) पक्षियों का टेढ़ा या मुड़ा
 हुआ पंजा, मनुष्य का बटोरा हुआ
 पंजा; (मुहा.) -में फँसना—बश में आना ।
 चुंगली—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का नाक
 का आभूषण ।
 चुंगवाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'चुगवाना' ।
 चुंगाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'चुगाना' ।
 चुंगी—(हि. स्त्री.) चुटकी भर वस्तु, नगर
 के भीतर आनेवाली सामग्रियों पर का
 कर; -कचहरी—(स्त्री.) नगरपालिका
 का कार्यालय; -घर—(पुं.) चुंगी दफ्तर ।
 चुंधाना—(हि. क्रि. स.) चुसाना, चुसाकर
 पिलाना ।
 चुंच, चुंचरी—(हि. स्त्री.) चंचु, चोंच ।
 चुंटा, चुंटा—(हि. पुं.) छोटा कुआँ ।
 चुंठित—(हि. वि.) चुंडी या चोटोवाला ।
 चुंडी—(हि. स्त्री.) चुंटिया ।
 चुंदरी—(हि. स्त्री.) देखें 'चुनरी' ।
 चुंदी—(हि. स्त्री.) दूती, गिला, सिर के
 धीन के बालों की चुंटिया ।
 चुंचलाना, चुंचियाना—(हि. क्रि. अ.) अधिक
 प्रकाश के कारण आँखों का चोंचना,
 आँसुओं का तिलमिलाना ।
 चुंचक—(सं. पुं.) चुंचन करनेवाला, कामी,

कामुक, ग्रंथों का सामान्य अध्ययन करने-
 वाला, एक प्रकार का पत्थर या धातु
 जो लोहे को अपनी ओर खींचता है ।
 चुंचकत्व—(सं. पुं.) चुंचक पत्थर की वह
 शक्ति या गुण जिससे वह लोहे को अपनी
 ओर आकृष्ट कर लेता है, आकर्षण ।
 चुंचकीय—(सं. वि.) चुंचक जैसा गुण
 या आकर्षणवाला ।
 चुंचन—(सं. पुं.) चुंचने की क्रिया, बोसा, चूमा ।
 चुंचना—(हि. क्रि. स.) चूमना ।
 चुंचा—(सं. स्त्री.) चुंचन ।
 चुंचित—(सं. वि.) चूमा हुआ, छुआ हुआ,
 स्पृष्ट ।
 चुंची—(सं. वि.) चुंचन करनेवाला, छूनेवाला ।
 चुंभना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'चुभना' ।
 चुभना—(हि. क्रि. अ.) चूना, रसकर बहना ।
 चुआ—(हि. पुं.) चोआ ।
 चुआई—(हि. स्त्री.) चुआने या टपकाने
 का काम, चुआने का शुल्क ।
 चुआन—(हि. स्त्री.) सीता, नहर, खाई,
 गड्ढा ।
 चुआना—(हि. क्रि. स.) टपकाना, बूँद-बूँद
 करके गिराना, चिंकनाना, चुपड़ना ।
 चुआव—(हि. स्त्री.) चुआने की क्रिया या
 भाव ।
 चुकंदर—(हि. पुं.) शलजम के प्रकार की
 एक तरकारी ।
 चुकचुकाना—(हि. क्रि. अ.) किसी द्रव पदार्थ
 का रसकर बाहर आना, पसीजना ।
 चुकचुहिया—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की
 छोटी चिड़िया, चुं-चूं करनेवाला
 बालकों का एक खिलौना ।
 चुकटा—(हि. स्त्री.) भीख, चुटकी ।
 चुकटी—(हि. स्त्री.) देखें 'चुटकी' ।
 चुकता—(हि. वि.) चुकाया हुआ, ऋण-
 शोध किया हुआ ।
 चुकती—(हि. वि. स्त्री.) देखें 'चुकता' ।
 चुकाना—(हि. क्रि. अ.) समाप्त होना, निःशेष
 होना, बच न जाना, निवट जाना, भूल-
 चुक करना, अवसर पर काम न करना,
 निष्फल होना, व्यर्थ होना ।
 चुकरी—(हि. स्त्री.) रवंदचीनी ।
 चुकरड़—(हि. पुं.) दोमुँहा नप ।
 चुकवाना—(हि. क्रि. स.) अदा कराना,
 निवटाना, दिलवाना ।
 चुकाई—(हि. स्त्री.) चुकता होने का भाव ।
 चुकाना—(हि. क्रि. स.) ऋण निःशेष करना,
 चुकता करना, निवटाना ।
 चुकिया—(हि. स्त्री.) छोटा कुलहड़ या
 पुरवा ।

चुकौता—(हि. पुं.) ऋण का परिशोध; (मुहा.)—लिखना—ऋण चुकता पाने की रसीद लिखना।

चुक्कड़—(हि. पुं.) मिट्टी का छोटा पात्र, पुरवा।

चुक्कार—(हि. पुं.) शेर की चिघाड़, गरज।

चुक्की—(हि. स्त्री.) छल, कपट।

चुक्र—(सं. पुं.) चुक नाम की खटाई, एक प्रकार का खट्टा शाक, अमलबैत, कांजी; —फल—(पुं.) इमली।

चुक्षा—(सं. स्त्री.) हत्या, हिंसा।

चुखाना—(हि. क्रि. स.) गाय पेन्हाने के पहिले वल्ले को पिलाना, चखाना।

चुगद—(फा. पुं.) उल्लू की तरह एक छोटी चिड़िया, मूर्ख व्यक्ति।

चुगना—(हि. क्रि. स.) पक्षी का चोंच से दाना उठाकर खाना।

चुगल—(फा. पुं.) निंदा, पीठ पीछे शिकायत।

चुगलखोर—(फा. पुं.) चुगली या शिकायत करनेवाला।

चुगलखोरी—(फा. स्त्री.) शिकायत, चुगली।

चुगली—(फा. स्त्री.) निंदा, शिकायत, चुगली खाना, निंदा करना।

चुगलाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'चुमलाना'।

चुगा—(हि. पुं.) चिड़ियों के चुगने का चारा।

चुगाई—(हि. स्त्री.) चुगने की क्रिया।

चुगाना—(हि. क्रि. स.) चिड़ियों को दाना खिलाना।

चुगुल—(हि. पुं.) देखें 'चुगल'।

चुगुलखोर—(हि. पुं.) देखें 'चुगलखोर'।

चुगुलखोरी—(हि. स्त्री.) देखें 'चुगलखोरी'।

चुगुली—(हि. स्त्री.) देखें 'चुगली'।

चुचकारना—(हि. क्रि. स.) चुमकारना, पुचकारना, प्यार करना, दुलार करना, प्रेम दिखलाना।

चुचकारी—(हि. स्त्री.) चुमकारने की क्रिया या भाव।

चुचाना—(हि. क्रि. अ.) बूद-बूद करके टपकना, रसना, निचुड़ना, चूना।

चुचुआना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'चुचाना'।

चुचुक—(सं. पुं.) स्तन का अग्रभाग या घुंडी।

चुचुकना—(हि. क्रि. अ.) संकुचित होना, सूखकर सिकुड़ जाना।

चुटक—(हि. पुं.) एक प्रकार का गलीचा, कोड़ा, चावुक।

चुटकना—(हि. क्रि. स.) कोड़े या चावुक से मारना, चुटकी से तोड़ना, सांप का काटना।

चुटकला—(हि. पुं.) देखें 'चुटकुला'।

चुटका—(हि. पुं.) बड़ी चुटकी।

चुटकी—(हि. स्त्री.) अँगूठे और बीच की अँगुली के मिलने की स्थिति, इन दोनों अँगुलियों से त्वचा को नीचना, इन्हें आपस में रगड़कर चटकाना; भीख, वन्दक का घोड़ा, पैर की अँगुलियों का गहना, कपड़ा छापने की एक विधि, कागज आदि पकड़ने की काठ की चिमटी; (मुहा.)—देना—चुटकी वजाना;—वजाना—बीच की अँगुली पर अँगूठा छटकाकर शब्द करना;—वजाते-वजाते—वात की वात में, बहुत थोड़े समय में;—वजानेवाला—चापलूस;—बैठना—कोई काम करने का अभ्यास होना;—भर-बहुत थोड़े परिमाण का;—भरना—चुटकी काटना, मर्मभेदी वात कहना;—मांगना—मिक्षा मांगना;—लेना—हँसी उड़ाना; चुटकियों में—बहुत जल्द; चुटकियों पर उड़ाना—तुच्छ समझना।

चुटकुला—(हि. पुं.) कोई विलक्षण वार्ता, विनोदपूर्ण वात, अधिक गुण करनेवाली विशिष्ट औषध; (मुहा.)—छोड़ना—विलक्षण वात कहना, कोई ऐसी वात कहना जिससे कोई नई स्थिति उपस्थित हो जाय।

चुटफुट—(हि. स्त्री.) फुटकर वस्तु।

चुटला—(हि. पुं.) चोटी, चूड़ा, चोटी पर पहिनने का कोई गहना।

चुटिया—(हि. स्त्री.) सिर के बीच-बीच रखी जानेवाली वालों की लट, शिखा, चुंदी; (मुहा.) किसी की चुटिया हाथ में होना—किसी को अपने अधिकार या वश में रखना।

चुटियाना, चुटीलाना—(हि. क्रि. स.) चोट पहुँचाना, धायल करना, काटना, डंसना।

चुटीला—(हि. वि.) धायल, चोट खाया हुआ, सबसे उत्तम, मड़कीला; (पुं.) पतली छोटी चोटी।

चुटकी—(हि. स्त्री.) देखें 'चुटकी'।

चुटेल—(हि. वि.) जिसको चोट लगी हो, आक्रमण करनेवाला।

चुड़िया—(हि. स्त्री.) देखें 'चूड़ी'।

चुड़िहारा—(हि. पुं.) चूड़ी बनाने और बेचनेवाला।

चुड़ुक्का—(हि. पुं.) लाल की तरह की एक छोटी चिड़िया।

चुड़ूल—(हि. स्त्री.) प्रेतनी, भूतनी, डायन, पिशाचिनी, क्रूर स्वभाव की स्त्री, कुरूपा, भयंकर स्त्री।

चुत—(हि. वि.) देखें 'च्युत'।

चुत्थल—(हि. वि.) ठिठोलिया, मसखरा।

चुदक्कड़—(हि. वि.) अत्यन्त कामी, अधिक स्त्री-प्रसंग करनेवाला।

चुदना—(हि. स्त्री.) स्त्री का पुरुष से संभोग होना।

चुदवाई—(हि. स्त्री.) मैथुन, इसके लिए दिया जानेवाला धन।

चुदवाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'चुदाना'।

चुदवास—(हि. स्त्री.) मैथुन की कामना।

चुदवासी—(हि. स्त्री.) मैथुन कराने की इच्छा करनेवाली स्त्री।

चुदवैया—(हि. पुं.) स्त्री-प्रसंग करनेवाला, कामुक।

चुदाई—(हि. स्त्री.) स्त्री-प्रसंग, मैथुन, मैथुन के बदले मिलनेवाला धन।

चुदाना—(हि. क्रि. स.) पुरुष से प्रसंग कराना, मैथुन कराना।

चुदास—(हि. स्त्री.) प्रसंग-कामना।

चुदासा—(हि. पुं.) स्त्री-प्रसंग करने की कामनावाला मनुष्य।

चुन—(हि. पुं.) आटा, चूर्ण, वुक पि सान।

चुनचुना—(हि. पुं.) कसेरे का एक अस्त्र, सफेद महीन कीड़े जो बच्चों के पेट में पड़ जाते हैं, चुन्ना; (वि.) जिसके स्पर्श से चुनचुनाहट उत्पन्न हो; (मुहा.)—लगना—बहुत बुरा लगना।

चुनचुनाना—(हि. क्रि. अ.) चुमने के समान जलन और खुजली होना, टिनकना, बालकों का रोना।

चुनचुनाहट—(हि. स्त्री.) शरीर पर जलन और चुमने की-सी पीड़ा।

चुनट(त)—(हि. स्त्री.) चुनन, बल।

चुनन—(हि. स्त्री.) कपड़े या कागज पर की सिकुड़न, शिकन;—दार—(वि.) जिसमें चुनन पड़ी हो, जो चुना गया हो।

चुनना—(हि. क्रि. स.) एक एक करके दाना उठाना, बीनना, छाँटकर अलगाना, इच्छानुसार ढेर में से कुछ लेना, क्रम में या सजाकर रखना, तरतीब से रखना, भीत उठाना, कपड़े में सिकुड़न डालना, चुटकी से नोचकर अलगाना; चुना हुआ—(वि.) उत्तम, श्रेष्ठ; (मुहा.) दीवार में चुनना—जीवित भादमी को भीत में गड़वा देना।

चुनरी—(हि. स्त्री.) रंगीन कपड़ा जिसके बीच-बीच में सफेद बुंदकियाँ हों, लाल रंग का नगीना, चुन्नी।

चुनवां—(हि. वि.) चुना हुआ; दृष्टिया।

चुनवाना—(हि. क्रि. स.) चुनने का काम दूसरे से कराना।

चुनाई—(हि. स्त्री.) चुनने की क्रिया, बिनने का काम, भीत की जोड़ाई, चुनने का सूल्क।
 चुनाला—(हि. पुं.) परकाल, कंपास।
 चुनाना—(हि. क्रि. स.) बिनाना, इकट्ठा करवाना, अलगवाना, छंटवाना, भीत में गड़वाना, भीत की जोड़ाई करवाना, चुनन उलवाना।
 चुनाव—(हि. पुं.) चुनने या बिनने का काम, अनेक वस्तुओं में से किसी एक को चुनने का काम; (मुहा.)—लड़ना—चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना।
 चुनावट—(हि. स्त्री.) देखें 'चुनन'।
 चुनिदा—(हि. वि.) चुना हुआ, छांटा हुआ, बढ़िया, श्रेष्ठ, उत्तम।
 चुनिवा गोंद—(हि. पुं.) परास या ढाक का गोंद।
 चुनी-भूसी—(हि. स्त्री.) मोटे अन्न का पिसा हुआ चूर्ण।
 चुनीटी—(हि. स्त्री.) देखें 'चुनीटी'।
 चुनीटिया—(हि. पुं.) एक प्रकार का खैरा रंग।
 चुनीटी—(हि. स्त्री.) पान पर लगाने या मुस्ती में मिलाने का चूना रखने का छोटा पान।
 चुनीती—(हि. स्त्री.) उत्तेजना, बढ़ावा, ललकार, लड़ने के लिये पुकार।
 चुन्नन—(हि. स्त्री.) देखें 'चुनन'।
 चुन्ना—(हि. पुं.) देखें 'चूना'।
 चुन्नी—(हि. स्त्री.) मानिक आदि रत्न का टुकड़ा, अन्न का चूरा, स्त्रियों की ओढ़नी, लकड़ी का बारीक चूर, कुनाई।
 चुप—(हि. वि.) मूक, मौन, अवाक;—चाप—(अव्य.) शान्त भाव से, बिना कुछ बोले हुए, गुप्त रूप से; (मुहा.)—मारना—मौन होना;—जगाना—सामांश रहना।
 चुपका—(हि. वि.) चुप, मौन; चुपके से—(अव्य.) छिपकर, बिना कुछ कहे, गुप्त रूप से।
 चुपकाना—(हि. क्रि. स.) मौन करना, बोलने न देना।
 चुपकी—(हि. स्त्री.) मौन, गामोशी।
 चुपड़ना—(हि. क्रि. स.) घी, मक्खन आदि पोतना, दोष छिपाना, चापलूसी की बातें कहना।
 चुपड़ा—(हि. पुं.) वह जिनकी जाँचें गीमत में नगी हों।
 चुपाना—(हि. वि. अ.) चुप हो रहना, न बोलना।
 चुपा—(हि. वि.) नम बोलनेवाला, जो किसी बात का उत्तर नहीं दे।

चुप्पी—(हि. स्त्री.) मौनता; (मुहा.)—साधना—चुप रहना, मौन रहना।
 चुवलाना—(हि. क्रि. स.) स्वाद लेने के लिये किसी वस्तु को मुख में रखकर जीभ से इधर-उधर डुलाना।
 चुभकना—(हि. क्रि. अ.) पानी में डूबना-उतराना, गोता खाना।
 चुभकाना—(हि. क्रि. स.) पानी में गोते देना।
 चुभकी—(हि. स्त्री.) डूबकी, गोता।
 चुभन—(हि. स्त्री.) चुभने का आभास, अनुभव या क्रिया, खटक, दर्द।
 चुभना—(हि. क्रि. अ.) किसी नुकीली वस्तु का कोमल पदार्थ में घुसना, गड़ना, घँसना, मन में खटकना, चित्त को सालना, मग्न या लीन होना।
 चुभर-चुभर—(हि. पुं.) वच्चों के दूध पीने का शब्द।
 चुभलाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'चुवलाना'।
 चुभवाना—(हि. क्रि. स.) चुभने का काम दूसरे से कराना।
 चुभाना—(हि. क्रि. स.) घँसाना, गड़ाना।
 चुभीला—(हि. वि.) चुभनेवाला।
 चुभोना—(हि. क्रि. स.) चुभाना, गड़ाना।
 चुभकार—(हि. स्त्री.) चूमने जैसा शब्द, पुचकार।
 चुभकारना—(हि. क्रि. अ. स.) प्रेम दिखलाने के निमित्त मुख से चूमने के समान शब्द निकालना, दुलार दिखलाना, पुचकारना।
 चुभकारी—(हि. स्त्री.) देखें 'चुभकार'।
 चुभवाना—(हि. क्रि. स.) चूमने का काम दूसरे से कराना।
 चुम्भक—(हि. पुं.) देखें 'चुम्बक'।
 चुम्मा—(हि. पुं.) चुम्बन, दोसा।
 चुर—(हि. पुं.) शेर, बाघ आदि की माँद, चार-पाँच मनुष्यों के बैठने का स्थान; (वि.) अधिक, बहुत।
 चुरकना—(हि. क्रि. अ.) चिड़ियों का चह-बहाना, चंचकना, चूर होना, टूटना, फटना।
 चुरकी—(हि. स्त्री.) चोट्टी, चुटिया, शिखा।
 चुरकुट—(हि. पुं.) चणित, चूरचूर।
 चुरचुरा—(हि. वि.) थोड़े से दबाव में चुर-चुर करके टूटनेवाला।
 चुरचुराना—(हि. क्रि. अ.) चुरचुर शब्द करके टूटना।
 चुरट—(हि. पुं.) देखें 'चुरट'।
 चूरना—(हि. क्रि. अ.) किसी वस्तु का पानी में गोलना, परस्पर गुप्त मारपणा होना; (पुं.) पैट में उत्पन्न होनेवाले महीन कीड़े।
 चुरमुर—(हि. पुं.) कुरकुरी वस्तु के टूटने का शब्द।

चुरमुरा—(हि. वि.) चुरमुर शब्द करके सहज में टूटनेवाला, कुरकुरा।
 चुरमुराना—(हि. क्रि. अ., स.) चुरमुर शब्द करके टूटना या तोड़ना।
 चुरवाना—(हि. क्रि. स.) पकाने या चुराने का काम दूसरे से कराना, देखें 'चोरवाना'।
 चुरस—(हि. स्त्री.) बस्त्रादि की सिकुड़न या शिकन।
 चुरा—(हि. पुं.) देखें 'चूरा'।
 चुराई—(हि. स्त्री.) चुरान की क्रिया या भाव, पकाने या चुराने का काम।
 चुराना—(हि. क्रि. स.) परोक्ष में किसी की वस्तु का अपहरण करना, चोरी करना, लोगों की दृष्टि से छिपाना, किसी द्रव पदार्थ को उबलने तक पकाना; (मुहा.) आँखें चुराना—सम्मुख मुँह न करना; चित्त चुराना—मन को मोहित करना।
 चुरिहारा—(हि. पुं.) देखें 'चुड़िहारा'।
 चुरी—(हि. स्त्री.) देखें 'चूड़ी'।
 चुरुट—(अं. पुं.) सिगरेट, बड़ा सीगार।
 चुरू—(हि. पुं.) चुल्लू।
 चुल—(हि. स्त्री.) खुजलाहट, कामोद्वेग; (मुहा.)—उठना—खुजली होना; काम का आवेग होना;—सिटना—कामोद्वेग का तृप्त होना।
 चुलचुलाना—(हि. क्रि. अ.) खुजलाहट होना।
 चुलचुल—(हि. स्त्री.) चंचलता, चपलता।
 चुलचुला—(हि. वि.) चपल, चंचल, नटखट।
 चुलचुलाना—(हि. क्रि. अ.) रह-रहकर हिलना-डोलना, चंचल होना, चपलता दिखाना।
 चुलचुलापन—(हि. पुं.) चंचलता, चपलता।
 चुलचुलाहट—(हि. स्त्री.) देखें 'चुलचुलापन'।
 चुलचुलिया—(हि. वि.) देखें 'चुलचुला'।
 चुलचुली—(हि. स्त्री.) खुजलाहट, चुल।
 चुलाव—(हि. पुं.) बिना मांस का पुलाव।
 चुलियाला—(हि. पुं.) एक मात्रिक छन्द।
 चुलुक—(हि. पुं.) विस्तृत दलदल, गहरा कीचड़, चुल्लू, एक प्रकार का नापने का पात्र।
 चुलुक—(हि. पुं.) चुल्लू।
 चुल्लकी—(सं. स्त्री.) मूस नामक जल-जन्तु।
 चुल्ला—(हि. वि.) दुष्ट, नटखट, पाजी।
 चुल्ली—(सं. स्त्री.) चूल्हा; (वि.) नटखट।
 चुल्लू—(हि. पुं.) हाथकी हथेली का गड़डा; (मुहा.)—भर पानी में दूध मरना—उज्जावध प्राण दे देना;—मैं उल्लू बनना—योदी-मी भाँग पीकर बेसुध हो जाना;—चुल्लुओं रीना—अधिक अश्रुपात करना।

चुल्होना—(हि. पुं.) देखें 'चूल्हा' ।
 चुवना—(हि.क्रि.अ.) चूना, रसकर बहना ।
 चुवा—(हि. पुं.) मज्जा, हड्डी के भीतर का रस, भेजा ।
 चुवाना—(हि. क्रि. स.) वृंद-वृंद करके गिराना, टपकाना, थोड़ा थोड़ा करके गिराना ।
 चुसकी—(हि. स्त्री.) चपक, मद्य पीने का पात्र, ओंठों से किसी वस्तु को चूसने की क्रिया, घूट ।
 चुसना—(हि.क्रि.अ.) चूसा जाना, चिचोड़ा जाना, निचोड़ा जाना, खोखला होना, शक्तिहीन होना, निर्धन होना ।
 चुसनी—(हि. स्त्री.) बच्चों का चूसने का खिलौना ।
 चुसवाना—(हि. क्रि. स.) चूसने का काम दूसरे से कराना ।
 चुसाई—(हि. स्त्री.) चूसने की क्रिया या भाव ।
 चुसाना—(हि. क्रि. स.) चूसने का काम कराना, चूसन देना ।
 चुसौबल, चुसौबल—(हि. पुं.) चूसने की क्रिया ।
 चुस्त—(फा. वि.) कसा हुआ, जो ढीला न हो, फुरतीला, जो आलसी न हो, फवता हुआ ।
 चुस्ती—(फा. स्त्री.) फुरतीलापन, कसाव, दृढ़ता, मजबूती ।
 चुहंटी—(हि. स्त्री.) चुटकी ।
 चुहचुहा, चुहचुहाता—(हि. वि.) चह-चहाता हुआ, चटकीला, तेज रंग का, रसीला ।
 चुहचुहाना—(हि.क्रि. अ.) चटकीला जान पड़ना, रस टपकना, चिड़ियों का बोलना, कलरव करना ।
 चुहचुही—(हि. स्त्री.) एक चमकीले रंग की फूलों पर बैठनेवाली बहुत छोटी चिड़िया ।
 चुहटना—(हि. क्रि. स.) पैरों से कुचलना, रौंदना ।
 चुहड़ा—(हि. पुं.) श्वपच, डोम, चाण्डाल, भंगी ।
 चुहना—(हि. क्रि. स.) दाँतों से चवाकर रस चूसना ।
 चुहल—(हि. स्त्री.) हँसी-उट्टा, ठिठोली, विनोद; -पन—(पुं.) ठिठोली; -बाजी—(स्त्री.) हँसी, उपहास, विद्रुप ।
 चुहिया—(हि. स्त्री.) मादा चूहा, छोटा चूहा ।
 चुहुटना—(हि. क्रि. अ.) चिपकना ।
 चुहुटनी—(हि. स्त्री.) घुँघची ।
 चू—(हि. पुं.) छोटी चिड़िया का बोलने का शब्द; (मुहा.)—चूँ का मुरब्बा—

(पुं.) वे-मेल चीजों का संग्रह; -न करना—जरा सा भी एतराज न करना ।
 चूँकि—(फा. अव्य.) इस कारण, इसलिए कि ।
 चूँच—(हि. स्त्री.) चोंच ।
 चूँचरा—(हि. पुं.) विरोध, वहाना ।
 चूँची—(हि. स्त्री.) चूची, चूचुक ।
 चूँचूँ—(हि. पुं.) चिड़ियों के बोलने का शब्द ।
 चूंदरी—(हि. स्त्री.) देखें 'चुनरी' ।
 चूनी—(हि. स्त्री.) अन्न का कण ।
 चूक—(हि. स्त्री.) भूल, वरार, फटन, कपट, छल, धोखा, एक प्रकार का खट्टा साग, खट्टे फल के रस को गाढ़ा करके बनाया हुआ एक खाद्य पदार्थ; (वि.) अत्यन्त खट्टा ।
 चूकना—(हि.क्रि.अ.) अशुद्धि करना, भूल करना, अवसर गवाँ देना ।
 चूका—(हि. पुं.) एक प्रकार का खट्टा शाक ।
 चूची—(हि. स्त्री.) चूचुक, कुच के ऊपर की घुँडी, स्तन, स्त्री की छाती; -पीता—(वि.) बहुत छोटा, माँ का दूध पीनेवाला (बच्चा), नादान; (मुहा.) -पीना—स्तनपान करना; -मलना—स्त्री का स्तन मर्दन करना ।
 चूचुक—(सं. पुं.) देखें 'चूची' ।
 चूड़, चूड़क—(सं. पुं.) शिखा, चोटी, सिर पर की कलंगी, खम्भे या घर का ऊपरी भाग, कंकण ।
 चूड़ांत—(सं. पुं.) पराकाष्ठा, अन्तिम सीमा ।
 चूड़ा—(सं. स्त्री.) शिखा, चोटी, चुरकी, मोर या मुरगो के सिर पर की कलंगी, कुआँ, घुँघची, बाँह में पहिने का एक गहना, शिखर, मस्तक, हाथ में पहिने का हाथी-दाँत का कड़ा ।
 चूड़ाकरण—(सं. पुं.) बालक का पहिली बार सिर मुण्डन करने का संस्कार ।
 चूड़ाकर्म—(सं. पुं.) देखें 'चूड़ाकरण' ।
 चूड़ामणि—(सं. पुं.) सिर में पहिने का एक आभूषण, सीसफूल, अग्रगण्य, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, गुञ्जा, घुँघची ।
 चूड़ामल्ल—(सं. पुं.) इमली का फल ।
 चूड़ाला—(सं. स्त्री.) सफेद घुँघची, नागरमोथा ।
 चूड़िया—(हि. पुं.) एक प्रकार का धारीदार वस्त्र ।
 चूड़ी—(हि. स्त्री.) कोई वृत्ताकार पदार्थ, हाथ में पहिने का काँच आदि का गहना, रेशम स्वच्छ करने का एक अस्त्र; (मुहा.) चूड़ियाँ ठंडी करना—पति के मरने पर स्त्री का चूड़ियाँ तोड़ना या उतारना; चूड़ियाँ

पहिनेना—स्त्री का भेस धारण करना ।
 चूड़ीदार—(हि. वि.) जिसमें चूड़ी जैसी लकीरें या घेरे पड़े हों ।
 चूत—(सं. पुं.) आम का वृक्ष; (हि. स्त्री.) भग, योनि ।
 चूतक—(सं. पुं.) आम का वृक्ष ।
 चूतड़, चूतर—(हि. पुं.) कमर के नीचे तथा जाँघ के ऊपर का मांसल भाग, नितम्ब; (मुहा.) -दिलाना - पीठ दिखाना, कठिन समय पर भाग जाना; -पीटना या बजाना—बहुत प्रसन्न होना ।
 चूतिया—(हि. वि.) मूर्ख, फूहड़; -खाता, -चक्कर—(पुं.) चूतिया, बहुत ही मूर्ख व्यक्ति; -पंथी—(स्त्री.) मूर्खता ।
 चून—(हि. पुं.) चूर्ण, आटा, पिसान, एक प्रकार का थूहड़ ।
 चूनर, चुनरी—(हि. स्त्री.) देखें 'चुंदरी' ।
 चूना—(हि. पुं.) पत्थर, कंकड़ आदि को फूँकर बनाया हुआ तीक्ष्ण भस्म; (क्रि.अ.) किसी वस्तु का ऊपर से नीचे अचानक गिरना, छिद्र से रसकर बहना; (वि.) छिद्र द्वारा टपकनेवाला; (मुहा.) -फेरना—पानी में चूना धोलकर भीतर पर पीटना; -चूना लगाना—बोखा देना, लजाना, हानि पहुँचाना; -शानी—(स्त्री.) चुनीटी, चूना रखने की डिबिया ।
 चूनी—(हि. स्त्री.) अन्न का कण या छोटा टुकड़ा, माणिक रत्न का छोटा टुकड़ा, चुनी चुनी; -भूसी—(स्त्री.) चुनी और भूसी ।
 चूपड़ी—(हि. वि. स्त्री.) चूपड़ी हुई ।
 चूमना—(हि. क्रि. स.) ओंठों से शरीर के किसी अंग को या किसी पदार्थ को दवाना या स्पर्श करना; (मुहा.) चूमकर छोड़ देना—किसी कार्य को आरंभ करके बिना समाप्त किये छोड़ना ।
 चूसा—(हि. पुं.) चुम्बन, चूमना; -चाटी—(स्त्री.) प्रेम से चुम्बन की क्रिया ।
 चूर—(हि. पुं.) किसी पदार्थ के छोटे-छोटे टुकड़े, महीन कण, चूर्ण; (वि.) निमग्न, लीन, उन्मत्त; (मुहा.) -चूर करना—किसी पदार्थ के छोटे-छोटे टुकड़े करना, चूर्ण करना ।
 चूरण (सं. पुं.), चूरन—(हि. पुं.) -चूर्ण, महीन पिसी हुई औषध ।
 चूरना—(हि. क्रि. स.) चूर-चूर करना, तोड़ना, टुकड़-टुकड़ करना, चूर्ण करना ।
 चूरमा—(हि. पुं.) एक पक्वान्न जो रोटी या पूरी को चूर-चूर करके घी में भून-

चूर चीनी मिलाकर बनाया जाता है।
 चूरा-(हि. पुं.) किसी वस्तु का पीसा हुआ भाग, बुरादा, चूर्ण।
 चूरामणि-(हि. पुं.) देखें 'चूड़ामणि'।
 चूरी-(हि. स्त्री.) चूरा, चूर, चूड़ी।
 चूर-(हि. पुं.) एक प्रकार का चरस।
 चूर्ण-(सं. पुं.) महीन पिसा हुआ पदार्थ, दूकनी, घूल, चड़िया, अवीर, चूना; (वि.) ताँदा-फोड़ा हुआ, पीसा हुआ।
 चूर्णक-(सं. पुं.) सत्तू, सतुआ, छोटे-छोटे शब्दों से बना हुआ गद्य, एक प्रकार का वृक्ष।
 चूर्णकार-(सं. पुं.) चूर्ण करनेवाला, आटा पीसनेवाला।
 चूर्णकुतल-(सं. पुं.) अलक, लट।
 चूर्णकण्ड-(सं. पुं.) कंकड़।
 चूर्णा-(सं. स्त्री.) बार्पा छन्द का एक भेद।
 चूर्णि-(सं. स्त्री.) कपर्दक, कौड़ी।
 चूर्णिका-(सं. स्त्री.) सत्तू, सतुआ, देखें 'चूर्णक'।
 चूर्णित-(सं. वि.) चूर्ण किया हुआ।
 चूर्मा-(हि. पुं.) देखें 'चूरमा'।
 चूर्ल-(सं. पुं.) चोटी, शिखा; (हि. स्त्री.) लकड़ी का गड़ा हुआ पतला शिरा जो किसी छेद में पहिनाया या ठाँका जाता है अथवा जिस पर कोई पदार्थ घूमता है; (मुहा.) चूर्ल ढोली होना-अधिक परिश्रम से थक जाना।
 चूर्लक-(सं. पुं.) हाथी की कनपटी, खंभे का ऊपरी भाग।
 चूर्लदान-(हि. पुं.) पाकशाला, रसोईघर।
 चूर्लिय-(सं. पुं.) पूरी, लूची।
 चूर्लिका-(सं. स्त्री.) नाटक का वह अंग जिसमें किसी घटना के होने की सूचना नेपथ्य में दी जाती है।
 चूर्लहा-(हि. पुं.) मिट्टी का अथवा लोहे का बना हुआ वह आधान जिसमें आंच रख-कार पकाने का काम होता है; (मुहा.) -जलाना-नोजन पकाने का प्रबन्ध करना; -फूंकना-नोजन बनाना; चूर्लहे में जाया-नष्ट-प्रष्ट हो; -चूर्लहे में डालना-नाश करना; चूर्लहे से निकल-कर भट्टी में पटना-छोटी सी आपत्ति ने बचकर बड़ी आपत्ति में जा पड़ना।
 चूर्ण्य-(सं. पुं.) चूर्णन की क्रिया।
 चूर्णणोद-(सं. वि.) चूर्णने योग्य।
 चूर्ण्य-(सं. स्त्री.) हाथी की कमर में बाँधने की पट्टी, चुमना।
 चूर्ण्य-(सं. वि.) चुमने योग्य।
 चूर्ण्यता-(हि. वि. न.) धोतों और जीम को मिलाकर किसी पदार्थ का रंगसौचन,

किसी वस्तु का सार भाग लेना।
 चूर्हड़, चूर्हड़ा-(हि. पुं.) स्वपच, मंगी, मेहतर।
 चूर्हरी-(हि. स्त्री.) चूड़ी बेचने या पहि-नानेवाली स्त्री, चुड़िहारिन।
 चूर्हा-(हि. पुं.) मूपक, मूसा; -दंती-(स्त्री.) स्त्रियों के पहिनने की एक प्रकार की पहुँची; (वि.) चूर्हे के दाँत के आकार का; -दान, चूर्हेदानी-(पुं., स्त्री.) चूर्हों को फँसाने का पिंजड़ा।
 चूर्ह-(हि. स्त्री.) पक्षी के बोलने का शब्द; (मुहा.) -चूर्ह करना- व्यर्थ बकवाद करना।
 चूर्हड़ा-(हि. पुं.) छोटा बालक, बच्चा।
 चूर्हगी-(हि. स्त्री.) चमड़े की गोल छेद की हुई चकती जो गाड़ी के धुरे में पहिनाई रहती है।
 चूर्हच-(हि. पुं.) एक प्रकार का वरसाती शाक, पटुआ की एक किस्म।
 चूर्हचर-(हि. वि.) बकवाद करनेवाला।
 चूर्हचरा-(हि. पुं.) चातक पक्षी का बच्चा।
 चूर्हचला-(हि. पुं.) एक प्रकार का पशुवान्न।
 चूर्हचै-(हि. स्त्री.) चिड़ियों के बोलने का शब्द।
 चूर्हचुआ-(हि. पुं.) पक्षिशायक, चिड़िया का बच्चा।
 चूर्हचैप-(हि. स्त्री.) चीं-चपड़, व्यर्थ की बकवाद।
 चूर्हचैफ-(हि. पुं.) ऊख का छिलका।
 चूर्हचैजरी-(हि. पुं.) कुम्हार का चाक पर के गढ़े हुए पात्र को काटने का डोरा।
 चूर्हचैफितान-(सं. पुं.) शिव, महादेव।
 चूर्हचैचक-(हि. स्त्री.) एक छूतहा रोग जिसमें ज्वर के साथ-साथ सारे शरीर पर लाल-लाल छोटे दाँने निकल आते हैं; शीतला रोग, माता; -फा टोका-(पुं.) गो-बीज टोका जो चैचक के निवारणार्थ लगाया जाता है।
 चूर्हचैजा-(हि. पुं.) छिद्र, छेद।
 चूर्हचैट, चूर्हचैटक-(सं. पुं.) सेवक, दास, पति, नायक, नायिका को मिलानेवाला पुरुष, गड्डा, विदूषक, भाँड़, दूत, जल्दी, चसका, इन्द्रजाल, जादू का खेल।
 चूर्हचैटका-(हि. स्त्री.) चित्ता, श्मशान, मरघट।
 चूर्हचैटकी-(सं. पुं.) इन्द्रजाली, जादूगर, कौतुकी।
 चूर्हचैटिका, चूर्हचैटिकी-(हि. स्त्री.) दासी नौकरानी।
 चूर्हचैटिया-(हि. पुं.) शिष्य, चेला।
 चूर्हचैटो-(सं. स्त्री.) दासी, लँठी।
 चूर्हचैटुआ-(हि. पुं.) चिड़िया का बच्चा।
 चूर्हचैटक-(हि. पुं.) देखें 'चैटक'।

चैत-(स. अव्य.) कदाचित्, यदि।
 चैत-(हि. पुं.) चित्तवृत्ति, चेतना, ज्ञान, बोध, सावधानी, स्मरण, सुध, चौकसी, चित्त।
 चैतक-(सं. वि.) चैत या होश में लाने या करानेवाला, चेतन।
 चैतकी-(सं. स्त्री.) हरीतकी, छोटी हर्ष, चमेली का पीघा, एक रागिनी का नाम।
 चैतन-(सं. पुं.) जीव, आत्मा, मनुष्य, प्राणी, जीवधारी, मन; (वि.) चैतन-युक्त, चैतक।
 चैतनता-(सं. स्त्री.); चैतनत्व-(सं. पुं.)-चैतन्य, सञ्ज्ञानता।
 चैतना-(सं. स्त्री.) मनोवृत्ति, बुद्धि, स्मृति, स्मरण, सुध, संज्ञा, चैतनता, होश; (हि. क्रि. अ., स.) समझना, विचारना, होश में आना, सावधान या सतर्क होना।
 चैतनीय-(सं. वि.) जानने योग्य, ज्ञेय।
 चैतन्य-(हि. पुं.) देखें 'चैतन्य'।
 चैतवनि-(हि. स्त्री.) देखें 'चैतावनी' 'चितवन'।
 चैतव्य-(सं. वि.) इकट्ठा करने योग्य, चयन करने योग्य।
 चैतावनी-(हि. स्त्री.) चैतने या सावधान होने की सूचना।
 चैतिका-(हि. स्त्री.) श्मशान, चित्ता।
 चैतोजन्मा-(सं. पुं.) कामदेव।
 चैतोहर-(सं. वि.) चैत या चेतना हरण करनेवाला।
 चैतोनी-(हि. स्त्री.) देखें 'चैतावनी'।
 चैत्य-(सं. वि.) ज्ञातव्य, जानने योग्य।
 चैवि-(सं. पुं.) एक प्राचीन देश का नाम, इस देश का राजा, इस देश का निवासी; -राज-(पुं.) शिशुपाल नामक राजा जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था।
 चैना-(हि. पुं.) सावा की किस्म का एक अन्न।
 चैप-(हि. पुं.) कोई गाढ़ा चिपचिपा रस, चिड़ियों को फँसाने का लासा, उत्साह; -दार-(वि.) लसदार, चिप-चिपा।
 चैपना-(हि. क्रि. स.) सटाना, चिपकाना।
 चैप-(सं. वि.) संग्रह करने योग्य।
 चैर-(हि. पुं.) दास, सेवक।
 चैरा-(हि. पुं.) नौकर, दास, चेला, विद्यार्थी।
 चैराई-(हि. स्त्री.) दासत्व, नौकरी, सेवा।
 चैरायता-(हि. पुं.) देखें 'चिरायता'।
 चैरि, चैरी-(हि. स्त्री.) दासी, नौकरानी।
 चैर-(सं. वि.) संग्रह करनेवाला।
 चैरई-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का मिट्टी का बड़ा घड़ा।
 चैर-(सं. पुं.) वस्त्र, कपड़ा।
 चैरकाई-(हि. स्त्री.) गिण्यवर्ग, बेलों का

समूह।

चेलहाई—(हि. स्त्री.) देखें 'चेलकाई'।

चैला—(हि.पुं.) वह जिसने गुरु से कोई दीक्षा ली हो अथवा कोई धार्मिक उपदेश ग्रहण किया हो, शिष्य, छात्र, विद्यार्थी; (मुहा.)—सूँड़ना—शिष्य बनाना।

चैलान—(सं. पुं.) तरबूज की लता; (हि. पुं.) चैलों का समूह।

चैलिका—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का रेशमी वस्त्र।

चैलिकाई—(हि. स्त्री.) देखें 'चेलहाई'।

चैलिन, चैली—(हि. स्त्री.) शिष्या, छात्रा।

चैलुक—(सं.पुं.) एक प्रकार का बौद्ध भिक्षुक।

चैलहवा—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी मछली।

चैवी—(हि. स्त्री.) एक रागिनी का नाम।

चैष्टक—(सं. पुं.) चैष्टा करनेवाला।

चैष्टा—(सं. स्त्री.) शरीर की वह स्थिति जिससे चित्त का भाव प्रगट होता है, इच्छा, कामना, कार्य, प्रयत्न, उद्योग, परिश्रम; —नाश—(पुं.) सृष्टि का अन्त, प्रलय, गतिहीन होना।

चेहरई—(हि. पुं.) हलका गुलाबी रंग।

चेहरा—(फा. पुं.) मुख की वनावट या आकृति, मुखाकृति, मुख, किसी वस्तु का अगला भाग, आगा, मिट्टी, कागज आदि की मुखाकृति जिसे नाटक के समय पात्र मुख पर लगाते हैं; (मुहा.)—उतरना—उदास होना, मुख का म्लान होना; —रोला पड़ जाना—रक्ताल्पता आदि के कारण मुख का पीला या कांतिहीन होना, चेहरा उतरना; —सफेद हो जाना—मय आदि के कारण मुख पर सफेदी छा जाना।

चेहलूम—(फा. पुं.) मुहरम के चालीसवें दिन पड़नेवाला एक मुसलमानी त्यौहार।

चैत—(हि. पुं.) चैत्र, हिन्दुओं के वर्ष का पहिला महीना, वह चान्द्र मास जिसकी पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पड़ता है।

चैतन्य—(सं.पुं.) चित् स्वरूप आत्मा, ज्ञान, वैष्णवों के एक संप्रदाय के प्रवर्तक गौरांग महाप्रभु जिनका जन्म १५वीं शताब्दि में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, सचेता, सावधानी।

चैता—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्षी, एक प्रकार का लोकगीत।

चैती—(हि. स्त्री.) चैत में काटा जानेवाला अन्न, रवी, चैत्र मास में गाने का एक चलता गाना, चैता; (वि.) चैत्र संबंधी।

चैत, चैतिक—(सं. वि.) चित्त का।

चैत्य—(सं. पुं.) मन्दिर, देवालय, यज्ञ-शाला, बृद्ध की मूर्ति, पीपल का वृक्ष, बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध संन्यासियों का मठ, विहार, चिता; (वि.) चिता सम्बन्धी।

चैत्यक, चैत्यतरु—(सं.पुं.) अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष।

चैत्यपाल—(सं.पुं.) चैत्य का प्रधान अधिकारी

चैत्यमुख—(सं. पुं.) कमण्डलु।

चैत्यचंदन—(सं. पुं.) जिनियों या बौद्धों का मन्दिर।

चैत्यविहार—(सं. पुं.) बौद्धों का मठ।

चैत्यवृक्ष—(सं. पुं.) देखें 'चैत्यतरु'।

चैत्यस्थान—(सं. पुं.) वह मन्दिर जिसमें बृद्धदेव की मूर्ति स्थापित हो।

चैत्र—(सं. पुं.) चैत का महीना, संवत् का पहिला महीना, बौद्ध भिक्षुक, यज्ञभूमि, देवालय, मन्दिर, चैत्य; —क—(पुं.) चैत्र मास, चैत का महीना; —गौड़ी—(स्त्री.) एक प्रकार की रागिनी; —रय—(पुं.) कुवेर के वगीचे का नाम; —सख—(पुं.) मदन, कामदेव।

चैत्रावली—(सं. स्त्री.) चैत्रमास की पूर्णिमा।

चैत्री—(सं. स्त्री.) चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा।

चैदिक—(सं. वि.) चैदि देश संबंधी।

चैन—(हि. पुं.) आनन्द, सुख; (मुहा.) —उड़ाना—आनन्द करना; —की वंशी बजाना—आराम से खाते-पीते जीवन व्यतीत करना; —से कटना या गुजरना—आनन्दपूर्वक समय बीतना।

चैपला—(हि.पुं.) एक प्रकार का पक्षी।

चैयाँ—(हि. पुं.वा स्त्री.) वाहु।

चैल—(सं. पुं.) वस्त्र, कपड़ा, पहिनावा।

चैला—(हि. पुं.) कुल्हाड़ी से चीरे हुए लकड़ी के टुकड़े जो जलाने के काम में आते हैं।

चैलिक—(सं. पुं.) कपड़े का टुकड़ा।

चैली—(हि. स्त्री.) चीरी हुई लकड़ी का छोटा चैला।

चौक—(हि. स्त्री.) चुम्बन से गाल पर पड़ा हुआ दाँत का चिह्न।

चौकर—(हि. पुं.) देखें 'चौकर'।

चौका—(हि.पुं.) चूसने की क्रिया (विशेषतः स्तन); (मुहा.)—पीना—शिशु का माँ का स्तन चूसना।

चौगा—(हि.पुं.) वाँस, कागज आदि की एक ओर बंद तथा दूसरी ओर खुली हुई पोली नली।

चौगी—(हि. स्त्री.) नाथी में की हवा निकलने की नली।

चौघना—(हि. क्रि. स.) देखें 'चुगना'।

चौच—(हि. स्त्री.) पक्षी के मुख का नुकीला अगला भाग, चंचु, तुण्ड, ठोर, मुँह; (मुहा.) दो दो चौच होना—कहा-सुनी या झगड़ा होना।

चौचला—(हि. पुं.) देखें 'चौचला'।

चौटना—(हि. क्रि. स.) नोचना, खोंटना।

चौड़ा—(हि.पुं.) स्त्रियों के सिर का बाल, शोंटा, खेत के पास खोदा हुआ कच्चा छोटा कुआँ, सिर, मस्तक, माथा।

चौथ—(हि.पुं.) गाय, भैंस आदि का उतना गोबर जितना वह एक बार करे।

चौथना—(हि. क्रि.स.) नोचना, चीथना।

चौथर, चौथरा—(हि. वि.) बहुत छोटी आँखोंवाला, मूर्ख।

चौप—(हि. पुं.वा स्त्री.) देखें 'चौप'।

चौआ—(हि. पुं.) एक सुगन्धित द्रव पदार्थ जो चन्दन और देवदार के बुरादे तथा सुगन्धित फूलों को मिलाकर और खोलाकर चुभाने से बनता है, तौलने में किसी वाट की कमी पूरी करने के लिए जो कंकड़-पत्थर का टुकड़ा प्रयोग किया जाता है।

चौई—(हि. स्त्री.) मछली के शरीर पर के कड़े और सीप जैसे चिकने टुकड़े।

चौई—(हि. स्त्री.) दाल का छिलका जो उबाल के समय इसमें से अलग होता है।

चौक—(सं. पुं.) भड़माँड़ की जड़ जो औषधों में प्रयुक्त होती है।

चौकर—(हि. पुं.) पीसे हुए अन्न की भूसी या छिलका जो आटे को चालने पर निकलता है।

चौका—(हि. पुं.) चूसने की क्रिया, चोंका।

चौक—(सं. वि.) शुद्ध, पवित्र, तीक्ष्ण, प्रशंसनीय।

चौख—(हि.वि.) वेग, फुरती; (वि.) चौखा।

चौखना—(हि. क्रि. स.) चूसना, चूसकर स्तन पीना।

चौखा—(हि. वि.) शुद्ध, बिना मिलावट का, उत्तम, सच्चा, पनी धार का, चतुर, खाद्य; (पुं.) बैंगन या अरई का भरता; —ई—(स्त्री.) चुसाई, चौखापन।

चौगर—(हि. पुं.) उल्लू के समान आँख-वाला घोड़ा।

चौच—(सं. पुं.) छाल, वल्कल, केंड़ा, नारियल।

चौचला—(हि. पुं.) अपने प्रिय को मोहित करने के लिये स्त्रियों का नखरा, अपने अंगों की गति या चेष्टा, हावभाव।

चौचलेवाजी—(हि. स्त्री.) नखरा करना, नखरेवाजी।

घोज-(हि. पूं.) दूसरों को हँसानेवाली बातों, हँसी, ठट्ठा, व्यंग्य-पूर्ण उक्ति, सुनापित ।
 चोट-(हि. स्त्री.) प्रहार, आघात, टक्कर, मार, धाव, आघात का प्रभाव, आक्रमण, मानसिक व्यथा, शोक, सन्ताप, दुःख, व्यंग्य-पूर्ण विवाद, ताना, धोखा; (मुहा.)-उभड़ना-चोट में फिर से पीड़ा होना; -खाना-प्रहार से आहत होना; -खाली जाना-आक्रमण व्यर्थ होना; -पर चोट पड़ना-संकट पर संकट या हानि पर हानि होना; -बचाना-चोट न लगने देना ।
 चोटइल-(हि. वि.) चूटल, चोट खाया हुआ ।
 चोटहा-(हि. वि.) जिसके अंग पर आघात का चिह्न हो ।
 चोटा-(हि. पूं.) राव का पसेव जो कपड़े से छानने पर इसमें निकलता है, शीरा ।
 चोटाना-(हि. क्रि. अ.) चोट खाना ।
 चोटार-(हि. वि.) चोट पहुँचानेवाला, चूटल ।
 चोटारना-(हि. क्रि. स.) चोट करना ।
 चोटिया-(हि. स्त्री.) चोटी ।
 चोटियाना-(हि. क्रि. स.) चोट मारना, बल प्रयोग करना, चोटी पकड़ना ।
 चोटी-(हि. स्त्री.) शिखा, चुन्दी, स्त्रियों के एक में एक गुंथे हुए बाल, इसमें बाँधने का डोरा, जूड़े में पहिने का एक प्रकार का आभूषण, पत्तियों के सिर पर की कालेंगी, गिखर, उठा हुआ ऊपर का नाग; (मुहा.)-फटाना-बग में या अधीनता में आना; -फरना-बालों को गुँथकर चोटी बनाना; -हाथ में होना-बग में होना; -का-(वि.) सर्वश्रेष्ठ; -दार-(वि.) जिसके चोटी हो, चोटीवाला; -पोटी-(स्त्री.) झूठी बात, प्रशंसा से भरी हुई हुई बात, बना-बटी बात; -वाला-(पुं.) पिपाच, प्रेत ।
 चोट्टा-(हि. पूं.) तस्कर, चोरी करनेवाला ।
 चोड़-(सं. पूं.) उत्तरीय वदन, उपरना ।
 चोड़क-(हि. पूं.) एक प्रकार का पहिने का वस्त्र ।
 चोड़ी-(हि. स्त्री.) स्त्रियों की पहिने की माली ।
 चोय-(हि. पूं.) देखें 'चोय' ।
 चोद-(सं. पूं.) चायक, नुकीले गिरे की झड़ी ।
 चोदक-(सं. क्रि.) प्रेरणा करनेवाला, उमकनिपात्र ।
 चोदकट-(हि. पूं.) अधिक स्त्री-प्रसंग करनेवाला ।

चोदना-(सं. स्त्री.) विधि-वाक्य, प्रेरणा; (हि. क्रि. स.) स्त्री-प्रसंग करना ।
 चोदाई-(हि. स्त्री.) स्त्री के साथ संभोग, मैथुन ।
 चोदास-(हि. स्त्री.) मैथुन की इच्छा, कामेच्छा ।
 चोदासा-(हि. वि.) संभोग की अधिक इच्छावाला ।
 चोद्य-(सं. वि.) प्रेरणा करने योग्य; (पुं.) छोटा प्रश्न ।
 चोप-(हि. पूं.) इच्छा, चाह, उमंग, उत्साह, उत्तेजना, बढ़ावा, वह चिपचिपा रस जो कच्चे आम की डेपुनी तोड़ने पर निकलता है ।
 चोपदार-(हि. पूं.) द्वारपाल ।
 चोपना-(हि. क्रि. अ.) मोहित होना, मुग्ध होना ।
 चोपी-(हि. स्त्री.) देखें 'चोप'; (वि.) इच्छा करनेवाला, उत्साही ।
 चोवचीनी-(हि. स्त्री.) एक लता की जड़ जो औषध के काम में आती है ।
 चोभाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'चुभाना' ।
 चोभा-(हि. पूं.) वह पोटली जिसमें दवा बाँधकर शरीर का कोई अंग सँका जाता है; (मुहा.)-देना-ऐसी पोटली से सँकना ।
 चोया-(हि. पूं.) देख 'चोआ' ।
 चोर-(सं. पूं.) छिपकर पराये की वस्तु हरण करनेवाला, तस्कर, धाव आदि का दूषित विकार जो शरीर में रह जाता है, अनिष्टकारक पदार्थ, छिपाया हुआ बुरा भाव, चोरक नामक गन्ध-द्रव्य; (वि.) छिपा हुआ, गुप्त; (मुहा.)-पड़ना-चोर का आकर कुछ चुरा ले जाना; -पर मोर पड़ना-घूर्त के साथ घूर्तता करना; मन में चोर पठना-मन में कोई खटका उत्पन्न होना; काम-चोर-(वि.) काम करने में आलस्य करनेवाला ।
 चोर उड़द-(हि. पूं.) उड़द का कड़ा दाना जो कंकड़ के समान होता है ।
 चोरक-(सं. पूं.) एक प्रकार का गन्ध-द्रव्य ।
 चोरकट-(हि. पूं.) चोर, उचक्का ।
 चोरखाना-(हि. पूं.) सन्दूक आदि में लगा हुआ गुप्त स्थान या खाना जिसका पता सबको न लग सके या जो गुप्त विधि से खुल सके ।
 चोर सिड्डी-(हि. स्त्री.) छोटा गुप्तद्वार ।
 चोर गली-(हि. स्त्री.) वह पतली गली जिसमें से बहुत कम लोग चलते हैं, पायजामे का वह नाग जो जाँघों के

बीच में रहता है ।
 चोर चकार-(हि. पूं.) चोर, उचक्का ।
 चोरछिद्र-(सं. पूं.) गुप्त छिद्र, सन्धि, दरज ।
 चोर जमीन-(हि. स्त्री.) वह भूमि जो ऊपर से ठोस जान पड़े पर नीचे से पोली हो ।
 चोर ताला-(हि. पूं.) वह ताला जो पेचीले ढंग से खुलता और बंद होता है ।
 चोरथन-(हि. पूं.) (गाय या भँस) जो दूध चुरा लेती हो ।
 चोरवंत-(सं. पूं.) वह दाँत जो बत्तीस दाँतों के अतिरिक्त निकलता है ।
 चोरदरवाजा-(हि. पूं.) गुप्तद्वार ।
 चोरना-(हि. क्रि. स.) चोरना ।
 चोरपहरा-(हि. पूं.) गुप्त रूप से बैठायों हुआ पहरा ।
 चोरपुष्पिका, चोरपुष्पी-(सं. स्त्री.) अंधा-हुली, शंखाहुली नामक पौधा ।
 चोरपेट-(हि. पूं.) अरसे तक पता न चलनेवाला गर्म ।
 चोरवदन-(हि. पूं.) वह बलवान पुरुष जो देखने में दुर्बल तथा बलहीन जान पड़े ।
 चोर-महल-(हि. पूं.) वह बड़ा घर जिसमें राजा या रईस रखनी या प्रेमिका को रखते हैं ।
 चोर मिहीचिनी-(हि. स्त्री.) आँख-मिचीनी का खेल ।
 चोररस्ता-(हि. पूं.) देखें 'चोरगली' ।
 चोरहटिया-(हि. पूं.) वह दुकानदार जो चोरों से माल मोल लेता हो ।
 चोररूप-(हि. पूं.) चतुर चोर ।
 चोरसीढ़ी-(हि. स्त्री.) छिपी सीढ़ी ।
 चोरस्तायु-(सं. पूं.) कौवाठाँठी ।
 चोरा-चोरी-(हि. अव्य.) छिपे-छिपे, चुपके से ।
 चोराना-(हि. क्रि. स.) देखें 'चुराना' ।
 चोरिका-(सं. स्त्री.) चराने का काम, चोरी ।
 चोरित-(सं. वि.) चुराया हुआ ।
 चोरी-(हि. स्त्री.) चुराने का काम, चुराने का भाव, छिपाव; -की काम की बात-वह काम या बात जो छिपाकर किया जाय या कही जाय; -छिनाला-(स्त्री.) चोरी और व्यभिचार, (पर-स्त्री या पर-पुरुष-गमन); -चोरी-(अव्य.) गुप्त रूप से; (मुहा.)-लगना-चोरी करने का दोषारोपण होना; -लगाना-चोरी करने का दोष आरोपित करना ।
 चोल-(सं. पूं.) एक प्राचीन देश का नाम जो भारत के दक्षिण में था, इस देश का

निवासी, अँगिया, चोली, वल्कल, कवच ।
चोलकी—(हि. पुं.) नारंगी का वृक्ष, हाथ की कलाई ।
चोलना—(हि. पुं.) देखें 'चोला' (साधुओं का लंबा कुरता) ।
चोलरंग—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्का लाल रंग ।
चोल सुपारी—(हि. स्त्री.) चिकनी सुपारी ।
चोला—(हि. पुं.) साधुओं का पहिनने का ढीला लंबा कुरता, बच्चों को पहली बार नवीन वस्त्र पहिनाने की रीति; (मुहा.) **चोले-दामन का साथ**—देखें 'चोली-दामन' का साथ;—**बदलना**—रूप बदलना, एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना, मरना ।
चोली—(हि. स्त्री.) स्त्रियों की एक प्रकार की अँगिया; (मुहा.)—**दामन का साथ**—अधिक धनिष्ठता ।
चोली मार्ग—(सं. पुं.) वाममार्ग का एक भेद ।
चोल्ला—(हि. पुं.) देखें 'चोला' ।
चोवा—(हि. पुं.) देखें 'चोआ' ।
चोषक—(सं. वि.) चूसनेवाला ।
चोषण—(सं. पुं.) चूसने की क्रिया, चूसना ।
चोषना—(हि. क्रि. स.) चूसना, दूध पीना ।
चोष्य—(सं. वि.) चूसने योग्य, चूसने लायक ।
चोसा—(हि. पुं.) लकड़ी रटने का रंदा ।
चोस्क—(सं. पुं.) उत्तम जाति का घोड़ा ।
चोहान—(हि. पुं.) देखें 'चौहान' ।
चौक—(हि. स्त्री.) चौकने का भाव, आश्चर्य, पीड़ा या भय के कारण शरीर का झटके से हिल उठना तथा जी घबड़ाना, भड़क, झिझक ।
चौकना—(हि. क्रि. अ.) आश्चर्य, भय, पीड़ा आदि के कारण शरीर कांप उठना, भड़कना, झिझकना, चकित होना, भौचक्का होना, विस्मित या हैरान होना, हिचकना, चौकन्ना होना, सचेत होना, खबरदार होना ।
चौकाना—(हि. क्रि. स.) एकाएक भय उत्पन्न करके काँपा देना, भड़काना, जी घड़काना, सतर्क करना, चौकन्ना करना, आश्चर्य में डालना, विस्मित करना ।
चौचा—(हि. पुं.) सिंचाई के लिए पानी से भरा हुआ गड्ढा जिसमें से पानी खेत में चढ़ाया जाता है ।
चौटना—(हि. क्रि. स.) चूटकी से तोड़ना ।
चौडल—(हि. पुं.) परदेदार डोली ।
चौतरा—(हि. पुं.) देखें 'चवतरा' ।
चौतिस—(हि. वि.) देखें 'चौतीस' ।
चौतीस—(हि. वि. पुं.) तीस और चार (की

संख्या), ३४;—**वाँ**—(वि.) तैंतीस संख्या के बाद का ।
चौध—(हि. स्त्री.) अधिक प्रकाश या चमक के कारण दृष्टि की अस्थिरता, चकाचौंध, तिलमिलाहट ।
चौधना—(हि. क्रि. अ.) बिजली का चमकना, कौंधना ।
चौधियाना—(हि. क्रि. अ.) अधिक प्रकाश या चमक के कारण दृष्टि को स्थिर न रख सकना, चकाचौंध होना ।
चौधी—(हि. स्त्री.) देखें 'चकाचौंध' ।
चौधक—(सं. वि.) चुम्बक की शक्ति का, आकर्षण करनेवाला, जिसमें चुम्बक मिला हो ।
चौर—(हि. पुं.) चँवर, शालर, फुंदना ।
चौरगाय—(हि. स्त्री.) सुरा-गाय ।
चौरा—(हि. पुं.) अन्न रखने का गड्ढा, गाड़ ।
चौराना—(हि. क्रि. स.) चँवर डोलाना, झाड़ू देना, वुहारना ।
चौरी—(हि. स्त्री.) मक्खी हाँकने का छड़ी में बंधा हुआ घोड़े की पूँछ के वालों का गुच्छा, वह डोरी जिससे स्त्रियाँ सिर के बाल गुँथ कर बाँधती हैं, सफेद पूँछ की गाय ।
चौसठ—(हि. वि. पुं.) साठ और चार (की संख्या), ६४;—**वाँ**—(वि.) संख्या में तिरसठ के बाद का ।
चौह—(हि. पुं.) गलफड़ा ।
चौही—(हि. स्त्री.) हल की एक लकड़ी जिसको परिहृत भी कहते हैं ।
चौ—(हि. वि.) चार; (पुं.) जौहरियों का मोती तौलने का एक परिमाण ।
चौआ—(हि. पुं.) चौपाया, चार अंगुल की नाप, ताश का वह पत्ता जिसमें चार वूटियाँ हों ।
चौआई, चौवाई—(हि. स्त्री.) चारों ओर से बहनेवाली हवा, अफवाह ।
चौआना—(हि. क्रि. अ.) चकित होना, भौचक्का होना, विस्मित होना, चकपकाना, व्यग्र होना, घबड़ाना ।
चौक—(हि. पुं.) चौकोर भूमि, घर के बीच का चौखूँटा स्थान जिसके ऊपर छाजन न हो, मांगलिक अवसर पर बनीर, आटे इत्यादि से बनाया हुआ चित्रित स्थान जहाँ देवता का स्थापन तथा पूजन होता है, नगर का बाजार जहाँ बड़ी-बड़ी दुकानें हों, चौराहा, चौमहानी, चौसर खेलने का कपड़ा, सामने के चार दाँतों की पंक्ति; (मुहा.)—**पूरना**—समतल भूमि पर आटे से चौकोर क्षेत्र बनाना ।

चौकठ, चौकठा—(हि. पुं.) देखें 'चौखट' ।
चौकड़—(हि. वि.) उत्तम, बढ़िया, अच्छा ।
चौकड़ा—(हि. पुं.) कान में पहिनने की वाली जिसमें दो मोती होते हैं, उपज की बँटाई जिसमें स्वामी को चौथा भाग मिलता है ।
चौकड़ी—(हि. स्त्री.) हरिन की वह गति जिसमें वह चारों पैर एक साथ फेंकता हुआ दौड़ता है, छलांग, कुदान, चार मनुष्यों का गूट, पलथी, चार युगों का समूह, एक प्रकार का आभूषण, एकसाथ चार-चार रस्सियों की लड़िये से चारपाई बुनने की शैली, चार घोड़े की गाड़ी; (मुहा.)—**भूल जाना**—बुद्धि काम में न आना, सब उपाय या तरकीब भूल जाना; **चंडाल-चौकड़ी**—(स्त्री.) उाद्री मनुष्यों का समूह ।
चौकन्ना—(हि. वि.) सावधान, सजग, सचेत, चौकस, चौका हुआ ।
चौकरी—(हि. स्त्री.) देखें 'चौकड़ी' ।
चौकल—(सं. पुं.) चार मात्राओं का समूह ।
चौकस—(हि. वि.) सावधान, सचेत, चौकन्ना, ठीक ।
चौकसाई, चौकसी—(हि. स्त्री.) सावधानी ।
चौका—(हि. पुं.) पत्थर का चौकोर टुकड़ा, रोटी बेलने का काठ या पत्थर का गोल टुकड़ा, चकला, सामने के चार दाँतों की पंक्ति, सिर पर पहिनने का एक आभूषण, सीसफूल, चौकोर ईंट, हिन्दुओं के रसोई बनाने का स्थान, स्वच्छता के लिये मिट्टी-गोबर का लेप, पूजन का चौक, एक साथ मिले हुए या एक-से चार पदार्थ, चार वूटियों का ताश का पत्ता, एक प्रकार का ठस विना हुआ वस्त्र; (मुहा.)—**वरतन करना**—रसोई-घर को लोपने-पोतने तथा जूठे पात्रों को माँजने का काम करना;—**लगाना**—चौपट या वर-वाद करना, नष्ट करना ।
चौकिया सोहागा—(हि. पुं.) छोटे-छोटे टुकड़ोंवाला स्वच्छ किया हुआ सोहागा जो औपचार्य में प्रयुक्त होता है ।
चौकी—(हि. स्त्री.) काठ या पत्थर का चार पायोंवाला वासन, कुरसी, खंभे के ऊपर या नीचे का चौकोर भाग, पड़ाव का स्थान, अड्डा, सराय, पुलिस का छोटा थाना जहाँ थोड़े से सिपाही रहते हैं, सिपाहियों की नियुक्ति जो कहीं रक्षा के लिये की जाती है, पहरा, देवता की भेंट जो उनको चढ़ाई जाती है, जादू-टोना, गले में पहिनने का एक

आभरण, पटरी, रोटी बेलने का चकला, भेंड़ों का रात में किसी खेत में रखना; (मुहा.)—देना—किसी के बैठने के लिये सुरक्षा रखना, रखवाली करना, पहरा देना;—बैठना—रक्षा के निमित्त पहरेदार नियुक्त होना;—दार—(पुं.) पहरा देनेवाला, गार्ड;—दारी—(स्त्री.) पहरा देने का काम, रखवाली, चौकीदार का पद, वह धन जो चौकीदार रखने के लिये दिया जाय।

चौकोन, चौकोना, चौकोर—(हिं. वि.) चतुष्कोण, चौखंड।

चौखंड—(हिं. वि.) चार खंडों का, चार अंगन या चौक का (मकान)।

चौराट—(हिं. स्त्री.) चार लकड़ियों से बना हुआ ढाँचा जिसमें किवाड़ के परले लगे होते हैं, देहली; (मुहा.)

—न झाँकना—कभी न आना;—लौघना—घर के भीतर जाना या बाहर आना।

चौराटा—(हिं. पुं.) देखें 'चौखंड'।

चौराना—(हिं. वि.) चार खंडों का।

चौरा—(हिं. पुं.) वह स्थान जहाँ चार गाँवों की सीमाएँ मिलती हैं।

चौरानि—(हिं. स्त्री.) चार प्रकार के जीव; यथा—अष्टज, पिष्टज, स्वेदज और उद्भिज।

चौराट—(हिं. पुं.) चारो दिशाएँ, चारों ओर; (वि.) चौकोर।

चौराटा—(हिं. वि.) चौकोर, चौखंड, चौकोना।

चौराड़ा—(हिं. पुं.) देखें 'चौघड़', शशक, चारहा।

चौराड़ा—(हिं. पुं.) देखें 'चौरा'।

चौराट्टी—(हिं. स्त्री.) पशुओं को फँसाने का धान की फट्टियों का बना हुआ ढाँचा।

चौराट्टि—(हिं. अव्य.) चारों ओर।

चौरान—(फा. पुं.) पोलो के खेल—जैसा एक खेल।

चौरान—(हिं. वि.) चौराना, चतुर्गुण।

चौराना, चौरान—(हिं. वि.) चतुर्गुण; (मुहा.) मन चौराना होना—उल्लाह बढ़ना, चित्त अति प्रसन्न होना।

चौराणा—(हिं. वि.) चार पैरोंवाला; (पुं.) शशक, चारहा।

चौराणिया—(हिं. स्त्री) एक प्रकार की चार पायों की टोपी जो कि जिस पर चढ़ने के लिये सोड़ियाँ लगी होती हैं, व्याघ्र या बहेलिये का धान की फट्टियों का बना हुआ चिड़ियों को फँसाने का टाँचा।

चौराणा—(हिं. पुं.) मिर्छा आदि भोजने की चीजों की शक्ति।

चौघड़—(हिं. पुं.) दाढ़ का वह चौड़ा दाँत जो चिपटा होता है और जिससे आहार को चवाने और कूचने का काम लिया जाता है, चौभड़।

चौघड़ा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का चार खानों का डिब्बा जिसमें मसाला आदि रखा जाता है; लवंग, इलायची, सुपारी आदि रखने का चाँदी का चार खानोंवाला डिब्बा, पत्ते का पुट जिसमें चार बीड़े पान लपेटकर रखे होते हैं।

चौघड़ी—(हिं. वि.) चार तहों या परतोंवाला।

चौघर—(हिं. पुं.) घोड़े की एक चाल, सरपट।

चौघरा—(हिं. पुं.) देखें 'चौघड़ा'; (वि.) चार खानों का।

चौघड़ी—(हिं. स्त्री.) चार घोड़ों की गाड़ी या रथ।

चौचंद—(हिं. पुं.) निन्दा की चर्चा, अपवाद; (मुहा.)—पारना—अपवाद करना;

—हाई—(वि. स्त्री.) अपवाद फैलानेवाली।

चौजुगो—(हिं. स्त्री.) चार युगों का काल।

चौड़—(सं. पुं.) चौल-संस्कार, मुण्डन।

चौड़ा—(हिं. वि.) लंबाई से भिन्न दिशा में विस्तृत; (पुं.) अन्न रखने का गड्ढा।

चौड़ाई, चौड़ाण—(हिं. स्त्री.) लंबाई से भिन्न दिशा का फैलाव, पाट।

चौड़ाना—(हिं. क्रि. स.) चौड़ा करना, फैलाना।

चौड़ाव—(हिं. पुं.) देखें 'चौड़ान'।

चौड़ोल—(हिं. पुं.) एक वाजा, चौघड़ा।

चौतगी—(हिं. वि.) चार तागा मिलाकर बटा हुआ डोरा।

चौतनियाँ—(हिं. स्त्री.) वस्त्रों की टोपी जिसमें चार बंद लगे होते हैं, अंगिया, चोली।

चौतनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'चौतनियाँ'।

चौतरफा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का तम्बू; (अव्य.) चारो ओर, चतुर्दिक्।

चौतरा—(हिं. पुं.) देखें 'चौतरा'।

चौतहा—(हिं. वि.) चार तहोंवाला।

चौतहो—(हिं. स्त्री.) चार तह करके विद्याने की मोटी चाँदनी।

चौतारा—(हिं. पुं.) एक वाजा जिसमें चार तार लगे होते हैं।

चौताल—(हिं. पुं.) मृदंग का एक ताल, होली में गाने का एक प्रकार का गीत।

चौताला—(हिं. वि.) चार तालवाला।

चौताली—(हिं. स्त्री.) कपास की टाँडी जिसमें से रुई निकलती है।

चौथ—(हिं. स्त्री.) महीने के प्रत्येक पक्ष का चौथा दिन, चतुर्थी, चौथाई भाग,

मराठा शासन-काल में वह कर जिसमें आय का चौथाई अंश राजा को मिलता था; (मुहा.)—फा चाँद—भादों सुदी चौथ का चन्द्रमा जिसके विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि जो उसको देखता है उसको झूठा कलंक लगता है; (वि.) चौथा।

चौथपन—(हिं. पुं.) मनुष्य के जीवन की चौथी अवस्था, वृद्धावस्था, बुढ़ापा।

चौथा—(हिं. वि.) क्रम में तीसरे के बाद का।

चौथाई—(हिं. पुं.) चतुर्थांश, चतुर्थ या चौथा भाग।

चौथिया—(हिं. पुं.) चौथे दिन आनेवाला ज्वर; (वि.) चौथाई का हकदार।

चौथी—(हिं. स्त्री.) विवाह के चौथे दिन होनेवाली एक रीति जिसमें वर और कन्या के हाथ के कंगन खोले जाते हैं।

चौथिया—(हिं. पुं.) चतुर्थांश, चौथा भाग।

चौदंता—(हिं. वि.) चार दाँतोंवाला, उग्र, उद्दण्ड।

चौदंती—(हिं. स्त्री.) घृष्टता, उद्दण्डता।

चौदस—(हिं. स्त्री.) किसी पक्ष की चौदहवीं तिथि।

चौदह—(हिं. वि. पुं.) (संख्या) जो गिनती में दस और चार हो १४;—वाँ—(वि.) क्रम में तेरह के बाद का।

चौदांत—(हिं. पुं.) दो हाथियों की लड़ाई।

चौदानी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की कान में पहिन्ने की वाली।

चौधराई—(हिं. स्त्री.) चौधरी का काम या पद।

चौधराना—(हिं. पुं.) वह धन जो चौधरी को उसके काम के लिये दिया जाय।

चौधरी—(हिं. पुं.) किसी जाति या समाज का मुखिया।

चौना—(हिं. पुं.) कुएँ की जगत पर का ढाल, पीदर।

चौप—(हिं. पुं.) देखें 'चौप'।

चौपई—(हिं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में पंद्रह मात्राएँ होती हैं।

चौपला—(हिं. पुं.) चहारदीवारी।

चौपण—(हिं. पुं.) चारों पैरों का प्राणी, चौपाया।

चौपट—(हिं. वि.) चारों ओर से खुला हुआ, नष्ट-भ्रष्ट, विध्वस्त;—चरण—(पुं.) वह व्यक्ति जिसके पहुँचते ही सर्वनाश हो।

चौपटहा—(हिं. वि.) नष्ट करनेवाला, सर्वनाशी।

चौपटा—(हिं. वि.) देखें 'चौपटहा'।

चौपट्ट—(हिं. पुं.) चौतर का खेल।

चौपत—(हिं. स्त्री.) कपड़े की तह; (पुं.) वह पत्थर का टुकड़ा जिसमें कौल जड़ी होती है और जिस पर कुम्हार का चाक घूमता है।
 चौपतना—(हिं. क्रि.स.) कपड़े की तह लगाना।
 चौपतिया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का साग।
 चौपथ—(हिं. पुं.) चौराहा, चौमुहानी।
 चौपद—(हिं. पुं.) चौपाया, पशु।
 चौपर—(हिं. पुं.) देख 'चौपड़'।
 चौपरतना—(हिं. क्रि.स.) कपड़े की तह लगाना, चौपतना।
 चौपाल—(हिं. पुं.) देखें 'चौपत'।
 चौपहरा—(हिं. वि.) चार पहरो का।
 चौपहल—(हिं. वि.) जिसमें चार पहल हों, वर्गात्मक।
 चौपहला, चौपहलू—(हिं. वि.) वर्गात्मक, चार पहलों का।
 चौपहिया—(हिं. वि.) जिसमें चार पहिये हों; (स्त्री.) चार पहियों की गाड़ी।
 चौपाई—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं, चारपाई, खटिया।
 चौपाया—(हिं. पुं.) चार पैरोंवाला पशु, गाय, बैल, भैंस आदि।
 चौपाल—(हिं. पुं.) बैठने-उठने का स्थान जो ऊपर से ढपा तथा चारों ओर से खुला हो, दालान, एक प्रकार की खुली पालकी।
 चौपुरा—(हिं. पुं.) वह बड़ा कुआँ जिस पर चार पुर एक साथ चल सकें।
 चौपया—(हिं. पुं.) देखें 'चौपाई'।
 चौफला—(हिं. वि.) जिसमें चार फल या धार हों।
 चौफेर—(हिं. अव्य.) चारों ओर।
 चौफेरो—(हिं. स्त्री.) चारों ओर घूमना, परिक्रमा।
 चौबंदी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मिरजई, राजस्व, कर, धोड़े के चारों सुनों की नालबन्दी।
 चौबंसा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का वर्णवृत्त।
 चौबगला—(हिं. पुं.) कुरता, फतुही इत्यादि में बगल के नीचे तथा कली के ऊपर का भाग; (वि.) चारों ओर का।
 चौबगली—(हिं. स्त्री.) बगलबन्दी, चौबंदी।
 चौबच्चा—(हिं. स्त्री.) देखें 'चहबच्चा'।
 चौबरदी—(हिं. स्त्री.) चार बैलों की गाड़ी।
 चौबरती—(हिं. स्त्री.) वह श्राद्ध या उत्सव जो संबद्ध घटना से चार वर्ष बाद किया जावे।
 चौबाइन—(हिं. स्त्री.) चौबे की स्त्री।
 चौबाई—(हिं. स्त्री.) चारों ओर वहनेवाली

हवा, चौआई, किंवदंती।
 चौवारा—(हिं. पुं.) घर के ऊपर की वह कोठरी जिसमें चारों ओर खिड़कियाँ हों, खुली बैठक, बालाखाना; (अव्य.) चौथी वार।
 चौविस, चौवीस—(हिं. वि., पुं.) बीस और चार (की संख्या), २४; -वाँ—(वि.) संख्या में तेईस के बाद का।
 चौवे—(हिं. पुं.) ब्राह्मणों की एक शाखा, चतुर्वेदी। (मथुरा के पंडे इसी नाम से पुकारे जाते हैं।)
 चौबोला—(हिं. पुं.) एक प्रकार का मात्रिक छंद।
 चौभड़—(हिं. पुं.) देखें 'चौघड़'।
 चौमंजिला—(हिं. वि.) चार खण्डों का (घर)।
 चौमसिया—(हिं. वि.) वर्षा ऋतु के चार महीनों में होनेवाला; (पुं.) चार माशे का बाट।
 चौमहल—(हिं. वि.) देखें 'चौमंजिला'।
 चौमार्ग—(हिं. पुं.) चौरास्ता, चौमुहानी।
 चौमासा—(हिं. पुं.) चातुर्मास, वर्षा के चार महीने, वर्षा ऋतु के संबंध की कविता।
 चौमासी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का चौमासे का गाना।
 चौमुख—(हिं. अव्य.) चारों ओर।
 चौमुखा—(हिं. वि.) चारों ओर मुखवाला; (मुहा.)—दिया जलाना—दिवाला निकालना।
 चौमुहानी—(हिं. स्त्री.) चतुष्पथ, चौराहा, चौरास्ता।
 चौमंडा—(हिं. पुं.) चार सीमाएँ मिलने का स्थान।
 चौरंग—(हिं. पुं.) तलवार चलाने का एक हाथ; (वि.) तलवार से कई टुकड़े किया हुआ।
 चौरंगा—(हिं. वि.) जिसमें चार रंग हों, चार रंगों का।
 चौरंगिया—(हिं. पुं.) मलखम्म का एक व्यायाम।
 चौर—(सं. पुं.) दूसरे की वस्तु चुरानेवाला, चोर, तस्कर, चोरपुष्पी, एक गन्ध द्रव्य।
 चौरस—(हिं. वि.) जो ऊँचा-नीचा न हो, समतल, बराबर, वर्गात्मक, चौपहला; (पुं.) एक प्रकार का वर्णवृत्त, ठठरे का पात्र चिकनाने का उपकरण।
 चौरसा—(हिं. पुं.) चार रूपये भर का बाट।
 चौरसाई—(हिं. स्त्री.) समतल होने की अवस्था।

चौरसाना—(हिं. क्रि.स.) समतल करना, बराबर करना।
 चौरसी—(हिं. स्त्री.) चौरस करने का उपकरण।
 चौरस्ता—(हिं. पुं.) चौराहा, चौमुहानी।
 चौरहा—(हिं. पुं.) चतुष्पथ।
 चौरा—(हिं. पुं.) चवूतरा, वेदी, चौपाल, चौवारा, बाड़ा, भरवा, सफेद फूल का बैल।
 चौराई—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का शाक, चौलाई।
 चौरानवे—(हिं. वि., पुं.) नव्हे और चार (की संख्या), ९४।
 चौरासी—(हिं. वि., पुं.) अस्सी और चार (की संख्या), ८४, एक हजार घुंघरू, एक प्रकार की रुखानी, चौरासी लक्ष योनि; (मुहा.)—में पड़ना या भरमना—अनेक बार शरीर धारण करना और मरना।
 चौराहा—(हिं. पुं.) चार रास्तों का संगम-स्थल, चौक।
 चोरी—(हिं. स्त्री.) छोटा चवूतरा या वेदी, चउरी।
 चोरेठा—(हिं. पुं.) पानी के साथ पीसा हुआ चावल।
 चौर्य—(सं. पुं.) स्तेय, चोरी।
 चौलकर्म—(हिं. वि.) चूड़ा संस्कार, मुण्डन।
 चौलड़ा—(हिं. वि.) जिस माला में चार लड़ियाँ हों।
 चौलाई—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का शाक।
 चौली—(हिं. पुं.) बोड़ा।
 चौवन—(हिं. वि., पुं.) पचास और चार (की संख्या) ५४।
 चौवा—(हिं. पुं.) हाथ की चार अंगुलियों का समूह, चार अंगुलियों में लपेटा हुआ तागा, चार अंगुल की नाप, ताश का पत्ता जिसमें चार बूटियाँ हों, चौपाया।
 चौबालीस—(हिं. वि., पुं.) चालिस और चार (की संख्या), ४४।
 चौसई—(हिं. स्त्री.) हाथ का बुना मोटा कपड़ा।
 चौसर—(हिं. पुं.) एक खेल जो विसात पर चार रंगों की चार-चार गोटियों से दो मनुष्यों द्वारा खेला जाता है, चांपड़, इस खेल की विसात, चार लड़ों का हार।
 चौहट्ट, चौहट्ट—(हिं. पुं.) वह स्थान जहाँ चारों ओर टुकाने हों, चौक, चौरस्ता, चौमुहानी।
 चौहत्तर—(हिं. वि., पुं.) सत्तर और चार (की संख्या), ७४।
 चौहद्दी—(हिं. स्त्री.) चारों ओर की सीमा।

चौहरा—(हि.वि.) चार तहों या परतों का, चतुर्भुजा; (पुं.) चौबड़ा।
 चौहान—(हि.पुं.) क्षत्रियों की एक प्रसिद्ध गान्ध्या।
 चौह—(हि.अव्य.) चारों ओर।
 चरचर—(सं.पुं.) टपकना, चूना, रसना, धरना, एक ऋषि का नाम;—प्राश—(पुं.) आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध अवलेह जो मरीर को पुष्ट करता है।
 च्युत—(सं.वि.) गिरा हुआ, चुग्रा हुआ, ध्रष्ट, पतित, पराक्रम्य, अपने स्थान से हटा हुआ।
 च्युति—(नं.स्त्री.) पतन, खलन, झड़ना, गिरना, स्थान से हटना, चूक, अभाव, नुदाद्वार, मग।
 च्युटा—(हि.पुं.) चौटा।
 च्युटी—(हि.स्त्री.) चौटी।
 च्युड़ा—(हि.पुं.) चिड़वा, चूड़ा।
 च्युना—(हि.पुं.) धरिया।

छ

छ—हिन्दी वर्णमाला में चवर्ग का दूसरा व्यंजन जिसका उच्चारण तालु से होता है; (सं.पुं.) आच्छादन, धर, खण्ड, टुकड़ा; (वि.) स्वच्छ, तरल, निर्मल।
 छ, छः—(हि.वि.,पुं.) पाँच से एक अधिक संख्या (का), गिनती में पाँच से एक अधिक, ६, जोतिष में ७ की संख्या।
 छंग—(हि.पुं.) उत्संग, गोद, अंक।
 छंगा—(हि.वि.) छः अँगुलियोंवाला, जिसके एक पंजे में छः अँगुलियाँ हों।
 छंगनिया—(हि.वि.) छगुनी।
 छछोरी—(हि.स्त्री.) छाँछ में बनाया हुआ एक पत्रवात्र।
 छटना—(हि.क्रि.अ.) कटकर अलग होना, समूह से अलग होना, अलग होना, छितराना, साव छोड़ना, चुनकर अलग किया जाना, मल निकलना, दुबल होना; (मुहा.) छंट छंटे फिरना—दूर-दूर रहना, कुछ संबंध न रखना; छंटा हुआ—(वि.) मूले, चतुर।
 छंटनी—(हि.स्त्री.) छंटने की क्रिया, कर्मोत्तियों की संख्या में बचत के लिए आनुहित कर्मों करना।
 छंटवाना—(हि.क्रि.स.) किसी वस्तु का अनावश्यक भाग कटवा देना, कटवाना, छिपाना।
 छंटनी—(हि.स्त्री.) छंटने या अलग करने का काम, चुनने का काम।

छंटाना—(हि.क्रि.स.) देखें 'छंटवाना'।
 छंटान—(हि.पुं.) छंटनी, छंटने का काम।
 छंटल—(हि.वि.) छंटा हुआ, वृत्त।
 छंटना—(हि.क्रि.स.) त्यागना, छोड़ना, छंटना, वमन या के करना।
 छड़ाना—(हि.क्रि.स.) छीनना, चुरा ले जाना।
 छड़ुआ—(हि.वि.) छोड़ा हुआ, मुक्त; (पुं.) देवता को समर्पण करके छोड़ा हुआ पशु, व्याज की छूट।
 छंद—(सं.पुं.) युक्ति, चाल, रंग-ढंग, अभिप्राय, कविता, पद्य, विषय; (हि.पुं.) स्त्रियों का हाथ में पहिने का एक आभूषण; छलछंद—(पुं.) कपट, छल।
 छंदना—(हि.क्रि.स.) पैरों में रस्सी लगाकर बाँधा जाना।
 छंदबंद—(हि.पुं.) छलकपट, धोखा।
 छंदी—(हि.स्त्री.) स्त्रियों का हाथ में पहिने का एक आभूषण।
 छंदोबद्ध—(सं.वि.) पद्य रूप में रचित।
 छंदोभंग—(सं.पुं.) छंद में दोष।
 छई—(हि.स्त्री.) देखें 'क्षयी'।
 छक—(हि.स्त्री.) तुष्टि।
 छकड़ा—(हि.पुं.) बोस लादने की दुपहिया गाड़ी; (वि.) टूटा-फूटा, जिसका ढाँचा ढीला हो गया हो।
 छकड़िया—(हि.स्त्री.) छः कहारों द्वारा ढोने की पालकी।
 छकड़ी—(हि.स्त्री.) छः का समूह, जिसके छः अवयव हों, देखें 'छकड़िया'।
 छकना—(हि.क्रि.स.) खा-पीकर तृप्त होना, अधाना, उन्मत्त होना, चकराना।
 छकाछक—(हि.वि.) परिपूर्ण, भरा हुआ, अधाया हुआ, तृप्त, उन्मत्त।
 छकाना—(हि.क्रि.स.) खिला-पिलाकर तृप्त करना, उन्मत्त करना, अचंभे में डालना, कष्ट देना, परास्त करना।
 छकौला—(हि.वि.) छका हुआ।
 छकुर—(हि.पुं.) कृपिफल की घंटाई जिगमे नुस्वामी छटाँ नाग पाता है।
 छक्का—(हि.पुं.) छः का समूह, पासे का दाँव जिसमें छः चिन्दियाँ ऊपर पड़ें, जुए का दाँव जिसमें छः कौटियाँ चित पड़ें, वह तारा जिसमें छः वृटियाँ हों, सुवसुध, चेतना;—पंजा—(पुं.) दाँव-पंच; (मुहा.)—पंजा भूलना—बुद्धि काम न करना, चाल न चलना; छम्के छूटना या छुड़ाना—माहस छूटना या छुड़ाना।
 छग—(सं.पुं.) छाग, बकरा।
 छगड़ा—(हि.पुं.) छाग, बकरा।

छगण—(सं.पुं.) सूखा गोबर, कंडा।
 छगन—(हि.पुं.) छोटा बालक, प्रिय बालक;—मगन—(पुं.) हँसने-खेलनेवाले प्यारे बच्चे।
 छगरी—(हि.स्त्री.) छोटी बकरी।
 छगल—(सं.पुं.) छाग, बकरा।
 छगुनी—(हि.स्त्री.) हाथ की सबसे छोटी या कानी अँगुली।
 छछिआ, छछिया—(हि.स्त्री.) छाँछ पीने का छोटा पात्र, छाछ, मट्ठा, तक।
 छछूंदर, छछूंदर—(हि.पुं.) चूहे की जाति का जन्तु जिसका थूथन अधिक नुकीला होता है, एक प्रकार की अग्निक्वीड़ा; (मुहा.)—के सिर पर चमेली का तेल—किसी निरा अयोग्य व्यक्ति या कुपात्र को अच्छी चीज मिलना;—छोड़ना—हलचल मचाने की बात कहना।
 छजना—(हि.क्रि.अ.) शोभा देना, अच्छा लगाना, सजना, उचित जान पड़ना, ठीक जँचना।
 छजाना—(हि.क्रि.स.) सजाना, सज्जित करना।
 छज्जा—(हि.पुं.) छाजन या छत का भीत के बाहर निकला हुआ भाग, ओलती, ओरी, द्वार के ऊपर की पत्थर की पटिया जो बाहर की ओर निकली रहती है, टोपी के किनारे का निकला हुआ भाग।
 छटकी—(हि.स्त्री.) एक छटाँक का बटखरा, बहुत छोटी वस्तु।
 छटक—(हि.पुं.) रुद्रताल का एक भेद।
 छटकना—(हि.क्रि.अ.) वेग के साथ निकल जाना, सरकना, अलग-अलग रहना, दाँव से निकल जाना, हाथ न आना, उछलना, कूदना।
 छटका—(हि.पुं.) मछली फँसाने का गड्ढा।
 छटकाना—(हि.क्रि.स.) छटकने देना, बन्धन से छुड़ाना, बलपूर्वक अलग करना।
 छटना—(हि.क्रि.अ.) देखें 'छटना'।
 छटपट—(हि.पुं.) पीड़ा या बन्धन के कारण पैर फटकने की क्रिया; (वि.) चंचल, चपल।
 छटपटाना—(हि.क्रि.अ.) तड़फड़ाना, व्याकुल होना, धवड़ाना, वैचैन होना, उत्कण्ठित होना।
 छटपटी—(हि.स्त्री.) व्याकुलता, धवड़ा-हट, तीव्र उत्कण्ठा।
 छटाँक—(हि.स्त्री.) एक सेर का सोलहवाँ भाग;—भर-पाव भर का चौथाई, बहुत धोड़ा-सा।

छटा-(सं. स्त्री.) प्रकाश, प्रभा, झलक, शोभा, सौन्दर्य, छवि, विजली।
 छटाफल-(सं.पुं.) ताड़ या सुपारी का वृक्ष।
 छटाभा-(सं. स्त्री.) विजली की चमक।
 छटल-(हिं.वि.) छँटा हुआ, चतुर, चालाक।
 छट, छटो-(हिं.स्त्री.) देखें 'छठ, छठी'।
 छठ-(हिं. स्त्री.) पक्ष की छठवीं तिथि।
 छठा, छठवाँ, छठाँ-(हिं.वि.) क्रम में पाँच वस्तु के बाद का; छठे-छमासे-(अव्य.) कभी-कभी, बहुत दिनों के बाद।
 छठी-(हिं. स्त्री.) जन्म से छठे दिन अथवा छठे मास का पूजन, षष्ठी देवी का पूजन; -वरही-(स्त्री.) बच्चे के जन्म से छठे और नौवें दिन होनेवाला उत्सव; (मुहा.)-का दूध निकलना-बहुत अधिक परिश्रम करके रोजी कमाना; -का दूध याद पड़ना-बहुत हैरानी में पड़ना; -का राजा-जन्म का अमीर; (व्यंग्य) जन्म-दरिद्र।
 छड़-(हिं. स्त्री., पुं.) धातु या लकड़ी का लंबा और पतला टुकड़ा या गज।
 छड़ना-(हिं.क्रि.सं.) अन्न की भूसी अलगाने के लिये ओखली में रखकर मूसल से कूटना, छँटना।
 छड़ा-(हिं. पुं.) स्त्रियों के पैर में पहिने का गहना; (वि.) अकेला।
 छड़िया-(हिं. पुं.) दरवान, द्वारपाल, ड्योहीदार।
 छड़ियाल-(हिं.पुं.) एक प्रकार का वरछा।
 छड़ी-(हिं. स्त्री.) पतली लकड़ी या लाठी, पैजामे आदि की सीधी टँकाई, झंडी; (वि.स्त्री.) अकेली; -दार-(वि.) छड़ी लिये हुए, लकीरदार, सीधी लकीरोंवाला; (पुं.) द्वारपाल, दरवान, चोबदार; -वरदार-(पुं.) चोबदार।
 छड़ीला-(हिं. पुं.) देखें 'छरीला'।
 छण-(हिं. पुं.) देखें 'क्षण'।
 छत-(सं.स्त्री.) चूना, कंकड़ आदि डालकर बनाई हुई घर की छाजन, पाटन, घर में का खुला हुआ कोठा, चँदवा, घाव, जल्म; (अव्य.) रहते हुए, होते हुए; (मुहा.) -पाटना-चूना आदि पीटकर छत बनाना; -बँधना-बादलों का छा जाना।
 छतना-(हिं.पुं.) पत्तों का बना हुआ छाता।
 छतनार-(हिं.वि.) छाते की तरह फैला हुआ।
 छतवंत-(हिं. वि.) क्षतयुक्त।
 छतरी-(हिं. स्त्री.) छाता, पत्तों का बना हुआ छाता, मण्डप, राजाओं की चिता अथवा साधुओं की समाधि के ऊपर बना हुआ मण्डप, कबूतरों के बैठने का

टट्टर जो वाँस पर बँधा रहता है, टट्टर, एक्के के ऊपर की छाजन, कुकुरमुत्ता।
 छतलोट-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का व्यायाम।
 छतिया-(हिं. स्त्री.) वक्षःस्थल, छाती।
 छतियाना-(हिं.क्रि.सं.) छाती के पास ले जाना, बन्दूक तानना।
 छतिवन-(हिं. पुं.) सप्तपर्णी नाम का का बड़ा वृक्ष।
 छतीसा-(हिं. वि.) चतुर, सयाना, घूर्त; -पन-(पुं.) घूर्तता।
 छतीसी-(हिं. वि. स्त्री.) ढोंग-नखरे में चतुर, छली, चालाक।
 छतीना-(हिं. पुं.) छाता, छत्रक।
 छत्तर-(हिं. पुं.) छाता, कंडे के ढेर पर पीतने का गोवर, छप्पर जो मूसे के ढेर पर रखा जाता है, देखें 'छत्र' तथा 'सत्र'।
 छत्ता-(हिं. पुं.) छाता, छतरी, पटाव जिसके नीचे से मनुष्यों के चलने का मार्ग हो, मधुमक्खियों के रहने का मोम का बना हुआ घर, छतनार या फैली हुई वस्तु, कमल का बीजकोप।
 छत्तीस-(हिं.पुं., वि.) तीस और छः (की संख्या), ३६; -वाँ-(वि.) पैंतीस के बाद की संख्या का।
 छत्तीसा-(हिं. पुं.) नाई, हज्जाम; (वि.) घूर्त, चतुर, चालाक।
 छत्तीसी-(हिं. वि. स्त्री.) छल-छंदवाली, छिनाल, छत्तीसी।
 छत्र-(सं. पुं.) छाता, छतरी, राजाओं का छाता, छत्रक की तरह का एक पौधा, कुकुरमुत्ता; -क-(पुं.) मुँरफोर, कुकुरमुत्ता, एक प्रकार का पक्षी, शहद का छत्ता, शिवमन्दिर, मिस्री का कूजा, मन्दिर; -चक्र-(पुं.) शुभाशुभ फल निकालने के लिये फलित ज्योतिष का एक चक्र; -घर-(पुं.) छत्र धारण करनेवाला मनुष्य, राजा, राजा के ऊपर छत्र लगानेवाला सेवक, सेवक; -धारी-(वि.) देखें 'छत्रघर'; -पति-(पुं.) छत्र का अधिपति, राजा; -पत्र-(पुं.) भोजपत्र का वृक्ष; -बंध-(पुं.) नीच कुल का क्षत्रिय; -भंग-(पुं.) ज्योतिष का एक योग जिसमें राजा का नाश होता है, भराजकता; -बती-(स्त्री.) पांचाल देश के उत्तर का एक प्राचीन राज्य; -वृक्ष-(पुं.) मुचकुंद का पेड़।
 छत्रांग-(सं. पुं.) गोदस्ती, हस्ताल।
 छत्राफ-(सं. स्त्री.) छत्रक, घनिया, मजीठ।

छत्रिक-(सं. पुं.) छत्रघर।
 छत्री-(सं. वि.) छत्र धारण करनेवाला, छत्रयुक्त; (पुं.) नापित, क्षत्रिय।
 छत्रघर-(सं. पुं.) घर, कुंज।
 छत्रबंध-(हिं. पुं.) गोपन, छल।
 छद्र-(सं.पुं.) आवरण, ढपना, छाल, पत्ता, पक्षियों का पर, तमाल वृक्ष, तेजपत्ता।
 छदन-(सं. पुं.) आवरण, ढपना, पत्ता, पक्षियों का पर।
 छदाम-(हिं. पुं.) पैसे का चतुर्याश।
 छद्म-(हिं. पुं.) उपद्रवी बालक, नटखट लड़का।
 छद्म-(सं.पुं.) छिपाव, वहाना, मिस, छल, धोखा, कपट; -वेश-(पुं.) दूसरों को ठगने के लिये धारण किया हुआ वेश; -वेशी-(वि.) ह्प या भेस बदले हुए।
 छद्मी-(हिं. वि.) वनावटी ह्प या भेस करनेवाला, कपटी, छली।
 छन-(हिं. पुं.) देखें 'क्षण'।
 छनक-(हिं. स्त्री.) झनझनाहट, छनकार, जलती हुई वस्तु पर पानी पड़ने से उत्पन्न शब्द, भड़क; (पुं.) एक क्षण।
 छनकना-(हिं. क्रि. अ.) तपी हुई वस्तु पर पानी पड़ने से छनछन शब्द करके पानी उड़ जाना, झनकार करना, चौकन्ना होना, भड़कना।
 छनक-भनक-(हिं. स्त्री.) बानूषणों की झनकार, सजवज, सजवज।
 छनकाना-(हिं. क्रि. सं.) छनछन शब्द करना, चौकन्ना करना, भड़काना, चौंकाना।
 छनकार-(हिं. पुं.) छनछन शब्द।
 छनछनाना-(हिं. क्रि. अ., सं.) छन छन शब्द करना, छन छन शब्द होना, झनझनाना, झनकार करना।
 छनछवि-(हिं. स्त्री.) क्षणप्रभा, विजली।
 छनदा-(हिं. स्त्री.) देखें 'क्षणदा', रात्रि, रात।
 छनन-भनन-(हिं. पुं.) गीलते हुए तेल या घी में गीली वस्तु पड़ने से उत्पन्न शब्द।
 छनना-(हिं. क्रि. अ.) महीन छिद्रों में से किसी पदार्थ का नीचे गिरना, छोटे-छोटे छेदों में से होकर जाना, छाना जाना, कोई मादक पदार्थ का पिया जाना, स्थान-स्थान पर छेद हो जाना, निर्णय होना, छानवीन होना; (पुं.) छानने का महीन बन्ध, छन्ना; (मुहा.) गहरी छनना-गाड़ी मंत्री होना, रक्ष्य की बातें होना, वास्तव में सत्य नैरा होना।

छनभंगु—(हि. वि.) क्षणभर में नष्ट होनेवाला, क्षणभंगुर।
 छनवाना—(हि. क्रि. न.) देखें 'छनाना'।
 छनाका—(हि. पुं.) छनकार, छनाका, नप्यों के बजने का शब्द, छनकार।
 छनाना—(हि. क्रि. स.) किसी दूसरे से छानने वा काम कराना, मादक द्रव्य मिलाना।
 छनिक—(हि. वि.) क्षणिक, अल्प काल का; (पुं.) एक क्षण।
 छन—(सं. वि.) आवृत, ढपा हुआ, लुप्त; (हि. पुं.) तप्त स्थान या किसी तपी हुई वस्तु पर पानी पड़ने का शब्द, छनकार, छनकार; (मुहा.)—होना—नूप जाना, उड़ जाना।
 छत्रमति—(हि. वि.) मूर्ख, अज्ञान।
 छत्रा—(हि. पुं.) देखें 'छनना'।
 छत्र—(हि. स्त्री.) पानी में किसी वस्तु के गिरने का शब्द।
 छत्रकना—(हि. क्रि. अ., स.) पतली लचीली छड़ी से मारना, छिन्न करना, तलवार से किसी वस्तु को काट टालना, पानी के छोटे छोड़े हुए पानी में चलना या तैरना।
 छत्रका—(हि. पुं.) सिर में पहिने का एक आभूषण, पतली लचीली छड़ी, पानी का भरपूर छोटा, कबूतर फँसाने का एक प्रकार का जाल, पानी में हाथ-पाँव मारने का काम, छत्रका।
 छत्रछपाना—(हि. क्रि. अ., स.) पानी में छत्रछत्र शब्द करना, छत्रकना।
 छत्रपद—(हि. पुं.) पदपद, भ्रमर, मीरा।
 छत्रन—(हि. वि.) गुप्त; (पुं.) विनाश, संहार।
 छत्रनहार—(हि. वि.) नाश करनेवाला।
 छत्रना—(हि. क्रि. अ.) छापा जाना, अंकित होना, धीनला का टीका लगना या छापा जाना।
 छत्ररसद, छत्ररसाद—(हि. पुं.) मसहरी-दार पलंग।
 छत्ररछपर—(हि. वि.) तराबोर।
 छत्रखंद—(हि. पुं.) वह जिसका काम घर बनाना हो, छत्रपर छानेवाला।
 छत्रखंदी—(हि. स्त्री.) छत्रपर छाने का काम।
 छत्रा—(हि. पुं.) पत्तों से बना हुआ पान लगने का टोकरा, छत्ररवाला गाँव।
 छत्ररिया—(हि. स्त्री.) छोटा छत्रपर, छत्ररी।
 छत्ररी—(हि. स्त्री.) धोतड़ी, मड़ई।
 छत्ररार्द—(हि. स्त्री.) देखें 'छत्रार्द'।
 छत्रवाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'छत्राना'।
 छत्रपना—(हि. क्रि. अ.) छानने का छत्रवानेवाला।
 छत्रा—(हि. स्त्री.) क्षपा, राति, रात, हलदी।

छपाई—(हि. स्त्री.) छापने का काम या ढंग, मुद्रण, छापने की मजदूरी।
 छपाकर—(हि. पुं.) क्षपाकर, चन्द्रमा, कपूर।
 छपाका—(हि. पुं.) पानी में किसी वस्तु के गिरने का शब्द, वेग से फेंका हुआ पानी का छोटा।
 छपाना—(हि. क्रि. स.) छापने का काम कराना, छापेखाने में मुद्रित कराना, गीतला का टीका लगवाना, वस्तु को छिपाने के लिए तोपना।
 छपानाय—(हि. पुं.) देखें 'क्षपानाय', चन्द्रमा।
 छपाव—(हि. पुं.) देखें 'छिपाव'।
 छप्पन—(हि. वि., पुं.) पचास और छः (की संख्या), ५६।
 छप्पय—(हि. पुं.) एक मात्रिक छन्द जिसमें छः चरण होते हैं।
 छप्पर—(हि. पुं.) लकड़ी, फूस आदि की बनाई हुई छाजन, पोखरी, बरसाती पानी इकट्ठा होने का गड़डा, तलैया; (मुहा.)—पर फूस न होना—कंगाल होना; —पर रखना—अलग करना, दूर हटाना; —फाड़कर देना—अनायास देना; —रखना—कलंक लगाना; —बंद—(पुं.) छप्पर बनानेवाला; —बंदी—(स्त्री.) छप्पर छाने का काम।
 छव—(हि. स्त्री.) देखें 'छवि'।
 छवड़ा—(हि. पुं.) छितना, झावा, खाँचा, टोकरा।
 छवतखती—(हि. स्त्री.) गठन की सुंदरता, सजघज।
 छवरा—(हि. पुं.) देखें 'छवड़ा'।
 छवि—(हि. स्त्री.) शोभा, सुन्दरता; —घर, —मान, —वंत—(वि.) सुन्दर।
 छवीला—(हि. वि.) सुन्दर, रोहावना, छैला, वाँका, सजघज का।
 छवुंदा—(हि. पुं.) गोवरैले की तरह का एक कीड़ा जिसकी पीठ पर बुंदियाँ रहती हैं, एक विपैला कीट।
 छव्वीस—(हि. वि., पुं.) बीस और छः (की संख्या), २६; —बो—(वि.) मर्या में पच्चीस के बाद का।
 छव्वीसी—(हि. स्त्री.) छव्वीम गार्हियों का समूह (फलों की गिनती में)।
 छमंड—(हि. पुं.) पितृहीन बालक।
 छम—(हि. स्त्री.) धुंधले बजने का शब्द।
 छमक—(हि. स्त्री.) छमक, छटवाट।
 छमकना—(हि. क्रि. अ.) धुंधले आदि का बजना, छनकार करना, छमक दिगलाना।
 छमछम—(हि. स्त्री.) धुंधले, धावले आदि के बजने का शब्द; (अव्य.) ऐसे शब्द

के साथ।
 छमछमाना—(हि. क्रि. अ., स.) छमछम शब्द करना, छमछम शब्द करते हुए चलना।
 छमना—(हि. क्रि. स.) क्षमा करना।
 छमा—(हि. स्त्री.) देख 'क्षमा'।
 छमाई—(हि. स्त्री.) क्षमा करने का कार्य।
 छमाछम—(हि. स्त्री.) गहने के बजने या पानी बरसने का शब्द; (अव्य.) निरन्तर छमछम शब्द के साथ।
 छमाना—(हि. क्रि. स.) क्षमा करवाना।
 छमावान—(हि. वि.) देखें 'क्षमावान्'।
 छमाशी—(हि. स्त्री.) छः माशे का बटखरा।
 छमासी—(हि. स्त्री.) मृत्यु के छः महीने बाद होनेवाला श्राद्ध।
 छमुख—(हि. पुं.) पड़ानन, कार्तिकेय।
 छय—(हि. पुं.) क्षय, नाश, विनाश।
 छयना—(हि. क्रि. अ.) क्षय को प्राप्त होना, नष्ट होना।
 छर—(हि. वि.) देखें 'क्षर'; (पुं.) छरों के वेग से निकलने का शब्द।
 छरटा—(हि. पुं.) छल।
 छरकना—(हि. क्रि. अ.) छिटकना, बिखरना।
 छरकीला—(हि. वि.) लंबा तथा सुडौल।
 छरछंद, छरछंदी—(हि. पुं., वि.) देख 'छलछंद, छलछंदी'।
 छरछर—(हि. पुं.) कर्णों के वेग से निकलने का शब्द, लचीली पतली लकड़ी के पटकने का शब्द।
 छरछराना—(हि. क्रि. अ.) धाक पर नमक लगने से पीड़ा होना, किसी वस्तु पर कर्णों का वेग से गिरना।
 छरछराहट—(हि. स्त्री.) छरों या कर्णों के वेग से निकलने का शब्द, शरीर के कटे भाग पर या धाव पर नमक या धार लगने से होनेवाली पीड़ा।
 छरना—(हि. क्रि. अ., स.) टपकना, चूना, धरना, क्षीण होना, चकचकाना, वहना, धोखा देना, छगना, मोहित करना, लोमाना।
 छरपुरी—(हि. स्त्री.) छड़ीला, एक मुगन्धित द्रव्य।
 छरभार—(हि. पुं.) कार्य का भार, बखेड़ा, संझट।
 छरहरा—(हि. वि.) इकहरे शरीर का, हलका, फरतीला।
 छरहरापन—(हि. पुं.) फरती।
 छरा—(हि. पुं.) छड़ा, लड़ी, रस्मी, पैजामे की नीची, नारा, रस्ती।
 छरवा—(हि. वि.) देखें 'छरीवा'।
 छरिया—(हि. पुं.) छड़िया, चौबदार।
 छरिला—(हि. पुं.) देखें 'छड़िला'।

छरी-(हि. स्त्री.) देखें 'छड़ी'।
 छरीदा-(हि. वि.) बिना संग-साथ का, अकेला, बिना किसी प्रकार का बोझ लिये हुए।
 छरीदार-(हि. वि.) चोबदार।
 छरीला-(हि. पुं.) एक प्रकार का पौधा, पत्थरफूल (मसाला विशेष)।
 छरीरा-(हि. पुं.) शरीर पर पड़ी हुई खरोंच।
 छर्दन-(सं. पुं.) वमन, कैं करना।
 छर्दि-(सं. स्त्री.) वमन, कैं, उलटी।
 छर्दा-(हि. पुं.) कंकड़ आदि का छोटा टुकड़ा, बन्दूक में भरने के सीसे के छोटे-छोटे टुकड़े, पानी का छीटा।
 छलक, छलंग-(हि. स्त्री.) देखें 'छलंग'।
 छल-(सं. पुं.) दूसरे को धोखा देने का कार्य, बूतता, वंचना, व्याज, मिस, वहाना, कपट; (हि. पु.) जल के छोटों के गिरने का शब्द।
 छलक-(हि. स्त्री.) छलकने का भाव या क्रिया।
 छलकन-(हि. स्त्री.) पानी आदि का छलकना, उद्गार, स्फुरण।
 छलकना-(हि. क्रि. अ.) किसी द्रव पदार्थ का बरतन से उछलकर बाहर गिरना, बाहर होना, उमड़ना।
 छलकाना-(हि. क्रि. स.) किसी भरे हुए पात्र से द्रव पदार्थ को हिलाकर बाहर गिराना।
 छलकपट-(सं. पुं.) धोखेबाजी।
 छलछंद-(हि. पुं.) छलकपट।
 छलछंदी-(हि. वि.) घूर्त, कपटी।
 छलछलाना-(हि. क्रि. अ., स.) भरे हुए किसी पात्र से छलक करके जल आदि गिरना या गिराना, आँसू भर आना।
 छलछात-(हि. पुं.) देखें 'छलछिद्र'।
 छलछाया-(हि. स्त्री.) कपट, जाल।
 छलछिद्र-(सं. पुं.) कपट व्यवहार, घूर्तता।
 छलछिद्री-(हि. वि.) कपटी, छली।
 छलन-(हि. पुं.) छल करने का कार्य।
 छलना-(हि. क्रि. स.) प्रतारित करना, धोखा देना; (स्त्री.) छल, कपट, धोखा।
 छलनी-(हि. स्त्री.) आटा चालने का उपकरण, चलनी; (मुहा.)-करना-छिद्र-पूर्ण करना; कलेजा छलनी होना-निरन्तर कष्ट सहते-सहते जी ऊब जाना, हृदय जर्जर होना।
 छलहाई-(हि. वि. स्त्री.) घूर्त, छली, कपटी, धोखेबाज।
 छलंग-(हि. स्त्री.) फलांग, कुदान, चौकड़ी; (मुहा.)-भरना-चौकड़ी मारना।

छलंगना-(हि. क्रि. अ.) कूदकर आगे बढ़ना, फलांग मारना।
 छला-(हि. पुं.) अँगुली में पहिने का छल्ला या अँगूठी; (स्त्री.) आमा, चमक, झलक।
 छलाई-(हि. स्त्री.) छल, कपट।
 छलाना-(हि. क्रि. स.) प्रतारित करना, धोखे में डालना।
 छलावा-(हि. पुं.) मृत-प्रेत की छाया जो एकवारी दिखलाई पड़ती है परन्तु तुल्य लुप्त हो जाती है, दलदल के किनारे दिखाई पड़नेवाली रोशनी, अगिया-बैताल; -सा-(वि.) चपल, चंचल; अति भ्रामक; (मुहा.)-खलना-प्रेत-छाया आदि का इधर से उधर दौड़ते दिखाई देना।
 छलिक-(सं. पुं.) नाट्यशास्त्र में नाट्य का एक भेद।
 छलित-(सं. वि.) वंचित, धोखा खाया हुआ।
 छलिया-(हि. वि.) छल करनेवाला, कपटी, धोखेबाज।
 छली-(हि. वि.) कपटी।
 छलौरी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का अँगुलियों का रोग।
 छल्ला-(हि. पुं.) अँगुली में पहिने की सादी अँगूठी, मुँदरी, कड़ा, वलय, कोई मण्डलाकार वस्तु, कुण्डली, एक प्रकार की पक्की भीत।
 छल्ली-(हि. स्त्री.) छाल, छोटा छल्ला, सन्तति।
 छल्लेदार-(हि. वि.) जिसमें छल्ले लगे हों, जिसमें मण्डलाकार चिह्न हों।
 छवड़-(हि. पुं.) टोकरा।
 छवड़ी-(हि. स्त्री.) टोकरी।
 छवना-(हि. पुं.) वच्चा, सूअर का वच्चा।
 छवा-(हि. पुं.) सूअर का वच्चा, बछड़ा, एड़ी।
 छवाई-(हि. स्त्री.) छाने का काम या पारिश्रमिक।
 छवाना-(हि. क्रि. स.) छाने का काम कराना।
 छवि-(सं. स्त्री.) शोभा, कान्ति, सौन्दर्य, प्रभा, चमक, प्रतिकृति, चित्र।
 छवैया-(हि. पुं.) छप्पर छानेवाला।
 छहरना-(हि. क्रि. अ.) बिखरना, फैलना, छिटकना।
 छहरा-(हि. वि.) छः परतों का, छः पल्लों का।
 छहराना-(हि. क्रि. स.) छितराना, चारों ओर फैलाना, बिखराना, भस्म करना।
 छहरीला-(हि. वि.) छहरा।
 छहियाँ-(हि. स्त्री.) छाँह, छाया।
 छाँक-(हि. पुं.) खण्ड, टुकड़ा।

छाँगना-(हि. क्रि. स.) डाल, टहनी आदि काटना, छाँटना।
 छाँगुर-(हि. पुं.) वह जिसके पंजे में छः अँगुलियाँ हों, छः अँगुलियोंवाला।
 छाँछ-(हि. स्त्री.) देखें 'छाँछ', मट्ठा।
 छाँट-(हि. स्त्री.) काटने-छाँटने की क्रिया, छाँटने का ढंग, कतरन, अन्न की भूसी, अलग की हुई वेकार चीजें, वमन, कैं।
 छाँटन-(हि. स्त्री.) अलग की हुई वेकार चीज, कतरन।
 छाँटना-(हि. क्रि. स.) काट कर अलग करना, चुनकर अलगाना, अन्न स्वच्छ करने के लिये कूटना, चुन लेना, छाँटकर निकाल देना, हटाना, संक्षिप्त करना, अलग करना, बड़-बड़कर बातें करना।
 छाँड़ना-(हि. क्रि. स.) त्यागना, छोड़ना।
 छाँद-(हि. स्त्री.) पशुओं के पैर बाँधने की छोटी रस्सी, गाय वृहते समय बछवे को गाय के पैर से बाँधने की रस्सी, छान, नौई।
 छाँदना-(हि. क्रि. स.) रस्सी से बाँधना, कसना, जकड़ना, पशुओं के पैर बाँधना।
 छाँदस-(सं. वि.) छंद-संवधी. छंदात्मक; (पुं.) वेदपाठी, ब्राह्मण।
 छाँदसीप-(सं. पुं.) वेद-शास्त्र का पंडित।
 छाँदा-(हि. पुं.) बखरा, बाँट, हिस्सा, उत्तम भोजन।
 छाँदोग्य-(सं. पुं.) दस उपनिषदों में से एक।
 छाँव-(हि. स्त्री.) छाँह।
 छाँवड़ा-(हि. पुं.) बालक, पशु का छोटा बच्चा, छौना।
 छाँस-(हि. स्त्री.) भूसी, कूड़ा-करकट।
 छाँह-(हि. स्त्री.) जिस स्थान में धूप या चाँदनी न पड़ती हो, छाया, छाया हुआ स्थान, शरण, परछाहीं, प्रतिविम्ब, मृत-प्रेत का प्रभाव; (मुहा.)-छूना-पास में आना; -न छूने देना-पास में न आने देना; -बचाना-दूर-दूर रहना; -पै होना-छिपना।
 छाँहगीर-(हि. पुं.) राजछत्र, दर्पण, आर्शना।
 छाँहीं-(हि. स्त्री.) देखें 'छाँह'।
 छाई-(हि. स्त्री.) रात्र, खाद।
 छाक-(हि. स्त्री.) इच्छा-पूर्ति, सन्तोष, काम करनेवालों का दोषहर का भोजन, कलेवा, मद, मादकता, एक प्रकार का पक्वान्न।
 छाकना-(हि. क्रि. अ.) ज़ा-मीकर तृप्त होना, छाकना, अधाना, अफरना, मद्य पीकर मस्त होना, चकित होना, मोचकता रह जाना।

छाग-(हि. पुं.) बकरा ।
 छागल-(सं. पुं.) मोहरी या उपले की आग ।
 छागल-(सं. पुं.) बकरा; (स्त्री) बकरे की गाल की बनी हुई वस्तु, मगक, चाँदी का बना, स्त्रियों का पैर में पहिने का एक गहना, साँज ।
 छागिका, छागी-(सं. स्त्री.) बकरी ।
 छाष्ट-(हि. स्त्री.) मकखन निकाला हुआ दूध या दही, मट्ठा, मही ।
 छाष्ट-(हि. वि.) देखें 'छासट' ।
 छाज-(हि. पुं.) सूर्य, सूप, छाजन, छप्पर; (मुहा.) छाजों मेह बरसना-मसलघार वृष्टि होना ।
 छाजन-(हि. स्त्री.) आच्छादन, वस्त्र, कपड़ा, छप्पर, छपरल की छावाई, अपरस रोग; भोजन-छाजन-(पुं.) अन्न-वस्त्र ।
 छाजन-(हि. क्रि. अ.) उपयुक्त जान पड़ना, अच्छा लगना, गोमा देना, सुशोभित होना, मला लगना ।
 छाजा-(हि. पुं.) छज्जा, छाजन ।
 छाजित-(हि. वि.) शोभित, सजा हुआ ।
 छात-(हि. पुं.) राजछत्र, छाता, आषार, आश्रय; (वि.) कृश, दुर्बल ।
 छाता-(हि. पुं.) आतपत्र, छत्र, छतरी, छता; (क्रि. प्र.)-लगाना- छाते का व्यवहार करना ।
 छाती-(हि. स्त्री.) वक्षस्थल, कलेजा, हृदय, मन, स्तन, कुच, साहस, दृढ़ता, छाती की चौड़ाई; (मुहा.)-उड़ी जाना-जो दहलना; -उभड़ आना-प्रेम या करुणा से गद्गद होना; -फटना-देखें 'छाती पीटना'; -छलनी होना-दुःख सहते-सहते कलेजा पक जाना; -जलना-अनपन के कारण हृदय में जलन मालूम होना, मन्ताप होना; -जलाना-निदाना, गुड़ाना; -जूड़ाना-चित्त का प्रमत्त और भ्रान्त होना; -डोकना-साहसपूर्वक प्रतिज्ञा करना; -उंडी होना-चित्त का उद्वेग भ्रान्त होना; -तपे समना-सर्वज्ञ अपनी रक्षा में रपना; -तले रहना-आँसों के सामने नहना; -धामकर रह जाना-शोक के कारण ठक हो जाना; -वेना-त्रचे को स्तन मिलायना; -घटफना-नय आदि में हृदय-गति तीव्र होना; आसना में जो दहलना; -निकालकर चलना-अकृश चलना; सीना तानकर चलना; -पत्थर की करना-कष्ट करने के लिये हृदय कठोर करना; -पर का पत्थर-पिन्ता उत्पन्न करने-

वाली वस्तु; -पर कोदो दरना-किसी को दिक्ताकर ऐसा काम करना जिससे उसको बड़ा कष्ट हो; -पर चढ़ना-कष्ट पहुँचाने के लिये पास आना; -पर पत्थर रखना-किसी भारी शोक के आघात को सहन करना; -पर वाल होना-उदारता के लक्षण होना; -पर साँप लोटना-मानसिक व्यथा होना, ईर्ष्या होना; -फटना-अत्यन्त सन्ताप होना; -फुलाना-तनकर चलना; -भर आना-स्तनों का दूध से भर जाना; -मसोसना-मन ही मन संतप्त होना; -से लगाना-आलिंगन करना ।

छात्र-(सं. पुं.) विद्यार्थी, शिष्य, चेला ।
 छात्रक-(सं. पुं.) छात्र, मधु-छत्र में संचित मधु-मंडार ।

छात्रदशन-(सं. पुं.) ताजा मक्खन ।
 छात्रवृत्ति-(सं. स्त्री.) विद्यार्थियों को विद्याभ्यास के काल में आर्थिक सहायता ।

छात्रा-(सं. स्त्री.) स्त्री छात्र ।
 छात्रालय-(सं. पुं.) विद्यार्थियों के रहने का स्थान ।

छाद-(हि. पुं.) छत, छप्पर ।
 छादक-(सं. पुं.) खपरल या छप्पर छानेवाला ।

छादन-(सं. पुं.) आवरण, ढकने का काम, छिपाव, आच्छादन, जिससे छाया की जाय ।

छादित-(सं. वि.) आच्छादित, ढका हुआ ।
 छादी-(सं. वि.) आच्छादन करनेवाला ।
 छादिमक-(सं. वि. पुं.) पाखंडी, बहुरूपिया ।

छान-(हि. स्त्री.) घास-फूस को छाजन, खपरल, पशु के पैर में बाँधने की रस्ती, बन्धन ।

छानगीर-(हि. पुं.) छानेवाला ।
 छानना-(हि. क्रि. स.) किसी तरल पदार्थ या चूर्ण को महीन कपड़े आदि के पार निकालना, मिलाई हुई वस्तु को अलगाना, जाँचना, पड़ताल करना, देवमाल करना, छेदकर पार निकालना, तलना, रस्ती से बाँधना ।

छान-फटक, छान-दिनान-(हि. स्त्री.) देखें 'छानदीन' ।

छानदीन-(हि. स्त्री.) मली भाँति अनु-सन्धान, जाँच-पड़ताल, सूक्ष्म विचार, पूर्ण विवेचना ।

छानवे-(हि. वि. पुं.) नखे और छः की मंत्र्या का, नखे से छः अधिक, १६ ।

छाना-(हि. क्रि. अ. स.) ऊपर से

आच्छादित करना, ढाँपना, घूष, पानी आदि से बचाने के लिये ऊपर से कोई वस्तु फैलाना, बिछाना, रक्षा करना, पसरना, भर जाना, आच्छादित होना, डेरा डालना, टिकना ।

छानी-(हि. स्त्री.) छप्पर ।
 छानेछाने-(हि. अव्य.) गुप्त रूप से ।

छाप-(हि. स्त्री.) किसी उमड़े या खुदे हुए ठप्पे का चिह्न, अक्षर खुदी हुई अँगूठी, कवियों का उपनाम, माल पर का छापा, सिचाई में पानी उछालने की टोकरी; असर, प्रभाव ।

छापना-(हि. क्रि. स.) ठप्पे आदि में स्याही या रंग लगाकर चिह्नित करना, ठप्पे से निशान लगाना, मुद्रित करना, छापे के यन्त्र में दवाकर अक्षर या चिह्न अंकित करना ।

छापा-(हि. पुं.) ठप्पा, मुद्रा, व्यापार के माल पर डाला हुआ चिह्न, शंख, चित्र आदि का चिह्न जिससे वैष्णव लोग अपने शरीर को अंकित करते हैं भीत पर बना पंजे का चिह्न या छाप, मुद्रा, प्रतिकृति, असावधान शत्रु पर रात्रि में आक्रमण; (मुहा.)-मारना-रात में सोते हुए शत्रु पर सहसा धावा करना ।

छापाखाना-(हि. पुं.) पुस्तक, समाचार-पत्र आदि छापने का स्थान, मुद्रालय, प्रेस ।

छापा-मार-(हि. पुं.) शत्रु सेना पर छापा मारनेवाला सैनिक ।

छाम-(हि. पुं.) क्षाम, दुर्बल, कृश ।
 छामोदरी-(हि. वि. स्त्री.) कृशोदरी, छोटे पेटवाली ।

छायल-(हि. पुं.) स्त्रियों का एक पहिनावा या कुरती ।

छायंक-(हि. पुं.) चन्द्रमा ।
 छाया-(सं. स्त्री.) प्रकाश का अभाव, प्रकाश देनेवाली वस्तु के सामने अन्य वस्तु के आने पर उत्पन्न होनेवाली कालिमा, प्रकाश को रोकनेवाली वस्तु, परछाई, छाँह, साया, प्रतिविम्ब, सद्य वस्तु, प्रतिकृति, अनुहार, अनुकरण, सूर्य की पत्नी, कान्ति, रक्षा, अन्वकार, पवित, मृतप्रेत का प्रभाव, एक रागिनी का नाम, आर्या-छन्द का एक भेद; -नापित-(पुं.) गणित की एक क्रिया जिसमें छाया की सहायता से ग्रहों की गति, अयनांग आदि का निरूपण किया जाता है; -ग्रह-(पुं.) दर्पण, आईना; -ग्राहिणी-(स्त्री.) एक राक्षसी का नाम जिसने समुद्र

लांघते समय हनुमान जी की छाया को पकड़कर उनको खींच लिया था; -तनय-(पुं.)शनिश्चर; -दान-(पुं.) घी या तेल में अपने मुख की छाया देखकर इसमें कुछ दक्षिणा डालकर दान करने की विधि; -नट-(पुं.) एक राग का नाम; -पथ-(पुं.) आकाश-गंगा, देवपथ, आकाश; -पद-(पुं.) सूर्य की छाया द्वारा समय जानने का यन्त्र, सूर्य-घड़ी; -पुरुष-(पुं.) हठयोग के अनुसार मनुष्य की छाया-रूप आकृति जो उसको स्थिर दृष्टि से आकाश की ओर अधिक काल तक देखने पर दृष्टि-गोचर होती है -मान-(पुं.) चन्द्रमा; -मित्र-(पुं.); छाता, छतरी; -यंत्र-(पुं.) घूपघड़ी; -लोक-(पुं.) अदृश्य जगत; -वाद-(पुं.) रहस्यवाद, प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को अति गूढ़ भावों में व्यंजित करने की काव्यशैली; -वादी-(वि.) छायावाद से संबद्ध; (पुं.) छायावाद का अवलंबन करनेवाला कवि; -वान्-(वि.) छायायुक्त, छाँहवाला। छायान्वित-(सं.वि.) छायायुक्त, छायादार। छार-(हिं. पुं.) वनस्पतियों को जलाकर इससे निकाला हुआ नमक, क्षार, भस्म, राख, धूर; (मुहा.)-खार करना-नष्ट-भ्रष्ट करना। छाल-(सं. स्त्री.) वृक्षों के ऊपर का आवरण, बल्कल, बौकला, एक प्रकार की मिठाई। छालटी-(हिं. स्त्री.) छाल का बना हुआ बस्त्र, सन या पट्टे का बना हुआ कपड़ा। छालना-(हिं. क्रि. स.) छलनी में रखकर आटा आदि छानना, चालना, झँझरा करना, छेद करना। छाला-(हिं. पुं.) छाल या चमड़े के ऊपर की झिल्ली का उमड़ आना, आनला, झलका, फफोला। छालित-(हिं. वि.) घोया हुआ। छालिया-(हिं. पुं.) काँसे का प्याला जिसमें घी या तेल भरकर छायादान किया जाता है, सुपारी। छाली-(हिं. स्त्री.) कटी हुई सुपारी का चिपटा टुकड़ा, सुपारी का फल। छालें-(हिं. स्त्री.) छाँह, छाया, शरण। छावना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'छाना'। छाशनी-(हिं. स्त्री.) छान, छप्पर, पड़ाव, शिविर, सेना के ठहरने का स्थान। छावर-(हिं. पुं.) मछलियों के बच्चों

का झुंड। छावरा-(हिं. पुं.) पशु का बच्चा, छौना। छावा-(हिं. पुं.) पुत्र, बेटा, बच्चा। छासठ-(हिं. वि.) गिनती में साठ और छः; (पुं.) यह संख्या, ६६। छिउँका-(हिं. पुं.) एक प्रकार का छोटा चींटा। छिउँकी-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी चींटी, एक प्रकार का छोटा उड़नेवाला कीड़ा, रस्सी का एक प्रकार का फन्दा। छिकाना-(हिं. क्रि. स.) छींक लाना। छिगुनिया, छिगुनी-(हिं. स्त्री.) कानी अँगुली। छिछ, छिछि-(हिं. स्त्री.) छौंटा, धार, फुहारा। छिडुआ, छिडुवा-(हिं. पुं.) बीज बोने की एक रीति। छिड़ाना-(हिं. क्रि. स.) छीनना, जवर-दस्ती ले लेना। छिः, छि-(हिं. अव्य.) घृणा, तिरस्कार अथवा अरुचि-सूचक शब्द। छिउला-(हिं. पुं.) छोटा पेड़ या पौधा। छिकनी-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की घास जिसके घुंडी के आकार के फूलों को सूँघने से बहुत छींक आती है, नकछिकनी। छिकरा-(हिं. पुं.) हरिन की जाति का एक पशु। छिकका-(सं. स्त्री.) छींक। छिगुनी-(हिं. स्त्री.) हाथ की सब से छोटी अँगुली, कनिष्ठिका। छिच्छ-(हिं. स्त्री.) छौंटा, बूंद। छिछकारना-(हिं. क्रि. स.) छिड़कना। छिछड़ा-(हिं. पुं.) देखें 'छीछड़ा'। छिछला-(हिं. वि.) पानी का तल जो गहरा न हो, उथला। छिछलाई-(हिं. स्त्री.) छिछला होने का भाव। छिछली-(हिं. वि. स्त्री.) देखें 'छिछला'। छिछोरपन, छिछोरापन-(हिं. पुं.) क्षुब्धता, ओछापन, नीचता। छिछोरा-(हिं. वि.) क्षुब्ध, ओछा, नीच प्रकृति का। छिजना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'छीजना'। छिजाना-(हिं. क्रि. स.) छीजने देना, नष्ट होने देना। छिटक-(हिं. पुं.) पालकी के ओहार का द्वार के सामने का भाग। छिटकना-(हिं. क्रि. अ.) छितराना, चारों ओर बिखरना, चारों ओर प्रकाश फैलना। छिटकाना-(हिं. स्त्री.) चारों ओर फैलाना,

बिखराना। छिटकी-(हिं. स्त्री.) छोट, छौंटा। छिटनी-(हिं. स्त्री.) बाँस की छोटी टोकरी, डलिया। छिटवा-(हिं. पुं.) बड़ी टोकरी, टोकरा। छिड़कना-(हिं. क्रि. स.) पानी के छोटें फँकना, मिगोकर पानी बिखेरना, न्योछावर करना। छिड़कवाना-(हिं. क्रि. स.) छिड़कने का काम दूसरे से कराना। छिड़काई-(हिं. स्त्री.) छिड़कने का काम या पारिश्रमिक। छिड़काना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'छिड़कवाना'। छिड़काव-(हिं. पुं.) पानी आदि छिड़कने की क्रिया। छिड़ना-(हिं. क्रि. अ.) आरंभ होना, लड़ाई शुरू होना। छिड़ना-(हिं. क्रि. स.) 'छिड़ना' का प्रेरणार्थक रूप। छिण-(हिं. पुं.) देखें 'क्षण'। छितनी-(हिं. स्त्री.) बाँस की छिछली टोकरी, छिटनी। छितर-वितर-(हिं. वि.) देखें 'तितर-वितर'। छितराना-(हिं. क्रि. अ., स.) तितर-वितर होना, बिखरना, इधर-उधर डालना, इधर-उधर फैलाना, छोटना, दूर-दूर करना, सटी हुई वस्तुओं को अलग-अलग करना। छितराव-(हिं. पुं.) छितराने की क्रिया या भाव। छिति-(हिं. स्त्री.) क्षिति, भूमि, पृथ्वी, एक का अंक; -कांत-(पुं.) भूपति, राजा; -पाल-(पुं.) क्षितिपाल, राजा; -रह-(पुं.) क्षितिग्रह, वृक्ष, पेड़। छितोस-(हिं. पुं.) क्षितीश, भूपति, राजा। छित्वर-(सं. वि.) घूर्त, छेदक, बैरी। छिदना-(हिं. क्रि. अ.) छिद्रयुक्त होना, सूराखदार होना, भिदना, घायल होना, धावों से मरजाना, चुनना। छिदरा-(हिं. वि.) छितराया हुआ, विरल, सीना, फटा हुआ, जर्जर। छिदवाना, छिदवाना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'छेदवाना'। छिद्र-(सं. पुं.) छेद, सूराख, गड्ढा, बिल, अवकाश, दोष, वृष्टि, नी की संख्या; -झाँ-दूसरे का दोष झूँझना। छिद्रात्मा-(सं. वि.) क्लृप्त स्वभाव का, वृष्टि। छिद्रान्वेषण-(सं. पुं.) दोष झूँझना, सुनार करना या निकालना।

छिद्रान्वेषी-(नं. वि.) पराया शेष ढूँढ़ने-वाला, सूत्र निगमनेवाला।
 छिद्रकल-(नं. पुं.) मातृकल।
 छिद्रित-(नं. वि.) छिद्र-युक्त, छेदा हुआ, रोना हुआ।
 छिद्रोदर-(नं. पुं.) एक प्रकार का पेट का रोग।
 छिन-(हि. पुं.) देखें 'क्षण'।
 छिनह-(हि. अक्षर.) क्षण-भर, दम-भर।
 छिनकना-(हि. क्रि. अ., न.) नाक का मल गोंग चन्दर छोड़ते हुए निकालना, चमकना, भड़काकर भागना।
 छिनछदि-(हि. स्त्री.) विद्युत्, विजली।
 छिनदा-(हि. स्त्री.) देखें 'क्षणदा'।
 छिनना-(हि. क्रि. अ.) छीन लिया जाना, हन होना, कटा जाना।
 छिनभंग-(हि. वि.) क्षण-भर में नष्ट होनेवाला, क्षणभंगुर।
 छिनरा-(हि. पुं.) परस्त्रीगामी, लम्पट गुप्त।
 छिनवाना-(हि. क्रि. न.) छीनने का काम कराना।
 छिनाना-(हि. क्रि. न.) छिनवाना, हरण करवाना, पत्थर आदि को टाँकी से कटवाना।
 छिनार, छिनार-(हि. स्त्री.) पर-पुरप-गामिनी, व्यभिचारिणी, कुलटा।
 छिनारान, छिनारपना-(हि. पुं.) अवैध संयोग, छिनार, व्यभिचार।
 छिनाराला-(हि. पुं.) व्यभिचार।
 छिन-(नं. वि.) सफ़िदत, कटकर अलग किया हुआ; -भिन्न-(वि.) खंडित, टूटा-कटा, नष्ट-भष्ट, तितर-वितर; -मस्ता-(सं. वि.) जिसका मस्तक कटा हो; (स्त्री.) दम महाविद्याओं में एक देवी; -वण-(सं. पुं.) किसी शस्त्र में कटा हुआ धाव।
 छिना-(सं. स्त्री.) पृश्नली, छिनार।
 छिनरुकी-(हि. स्त्री.) मोह की जाति का एक जन्तु जो पत्तों में रहता है, गृहभोगिका, मित्रिणा, काम का एक आनूपण।
 छिप-छिप-(हि. अव्य.) गुप्त रीति में, छिपार, गुप्तता।
 छिपना-(हि. क्रि. अ.) छोट में आना, दिखाई न पाना, गूढ़न होना, गुप्त रहना वा होना।
 छिपना-(हि. क्रि. अ.) छोट में करना, संछिप, गोपन करना, गुप्त रहना, छिपना करना।
 छिपना-(हि. पुं.) का व्यक्ति जो गुप्त के रूप में परम विद्या न हो, छिपना रोग।

छिपाव-(हि. पुं.) मेद छिपाने का भाव।
 छिपे-छिपे-(हि. अव्य.) छिप-छिपकर।
 छिप्र-(हि. वि.) देखें 'क्षिप्र'; (पुं.) अँगुठे और उसके पास की अँगुली के बीच का स्थान।
 छिद्रड़ी-(हि. स्त्री.) छोटा टोकरा, खाँची।
 छिमा-(हि. स्त्री.) देखें 'क्षमा'।
 छिया-(हि. पुं.) घृणित वस्तु, मल; (वि.) गंदा, मँला; (मुहा.) -छरद करना-मल के समान घृणित समझना।
 छियानवे-(हि. वि., पुं.) देखें 'छानवे'।
 छियालिस, छियालीस-(हि. वि., पुं.) चालिस और छ; यह संख्या, ४६।
 छियासी-(हि. वि., पुं.) अस्सी और छ; यह संख्या, ८६।
 छिरकना-(हि. क्रि. स.) देखें 'छिड़कना'।
 छिरहटा-(हि. वि.) छिरेटा।
 छिरेटा-(हि. पुं.) एक प्रकार की लता जिसका रस जल में डालने से वह जम जाता है, छिल्लिहड़।
 छिलका-(हि. पुं.) फल, कन्द आदि के ऊपर का आवरण, फलों की त्वचा या झिल्ली, बोकला, वकला।
 छिलछिला-(हि. वि.) छिछला।
 छिलना-(हि. क्रि. अ.) छिलके या चमड़े का कटकर अलग होना, उबड़ना, खरोंचा जाना, त्वचा के ऊपर खरोंचा-सा होना।
 छिलवा-(हि. वि.) ऊख की पत्तियों को छीलकर अलग करनेवाला।
 छिलवाना-(हि. क्रि. स.) छीलने का काम दूसरे से कराना।
 छिलाव, छिलावट-(हि. स्त्री.) छीलने का काम या भाव, छिलाई।
 छिलौरी-(हि. स्त्री.) शरीर पर का छोटा छाला।
 छिहतर-(हि. वि., पुं.) सत्तर और छ; यह संख्या, ७६।
 छिहरना-(हि. क्रि. अ.) छितराना, फैलना।
 छिहाना-(हि. क्रि. अ.) ढेर लगाना, गाँजना।
 छिहानी-(हि. पुं.) मरवट, श्मशान।
 छोक-(हि. स्त्री.) वेग के साथ नाक और मुँह से एकाएक निकलनेवाला वायु का झोंका; (मुहा.) -होना-अपशकुन होना।
 छोकना-(हि. वि. अ.) मध्य करते हुए नाक और मुँह से वायु का झटके में निकलना; (मुहा.) छोकने नाक काटना-थोड़ी-नी दात पर जोर से चिड़ना।
 छोट-(हि. स्त्री.) जल का छोटा कण, जल-विद्, रंग-विरंगी वृष्टियाँवाला वन्य।

छोटना-(हि. क्रि. स.) विखराना, छितराना।
 छोट-(हि. पुं.) किसी द्रव पदार्थ को उछालने से उत्पन्न महीन बूँद, जलकण, महीन बूँदों की वृष्टि, बौछार, बूँद का चिह्न, मदक आदि की एक मात्रा, दंस, गुप्त रूप से किया हुआ ताना; (मुहा.) -छोड़ना या फेंकना-आक्षेप या व्यंग्य करना।
 छोंदा, छोंवी-(हि. स्त्री.) छीमी, फली।
 छो-(हि. अव्य.) घृणासूचक शब्द; (पुं.) वह शब्द जो घोवी लोग कपड़ा पछाड़ते समय बोलते हैं; (मुहा.) -छो करना-घृणा या अरुचि दिखलाना।
 छौउल-(हि. पुं.) पलास का वृक्ष, ढाक का पेड़।
 छौका-(हि. पुं.) रस्सियों का बना हुआ गोल जाल जो वस्तुओं को रखने के लिये छत से लटका दिया जाता है, सिकहर, बँलों के मुख पर बाँधने का जाल या खोता, झुले का पुल, बड़े-बड़े छिद्रों का टोकरा, खँचिया, छितना; (मुहा.) -टूटना-अनायास किसी के लाम के लिये कोई घटना होना।
 छौछड़ा-(हि. पुं.) मांस का बेकाम टुकड़ा, पशुओं के पेट की मल की थैली।
 छौछल-(हि. वि.) देखें 'छिछला'।
 छौछालेदर-(हि. स्त्री.) दुर्गति, दुर्दशा, खराबी।
 छौज-(हि. स्त्री.) कमी, घाटा, टोटा।
 छौजना-(हि. क्रि. अ.) क्षीण होना, कम होना, घटना।
 छोट-(हि. स्त्री.) देखें 'छोट'।
 छोट-(हि. पुं.) बांस का टोकरा, खाँचा, झावा।
 छौतना-(हि. क्रि. स.) विच्छू, बरें इत्यादि का डंक मारना।
 छौती-(हि. स्त्री.) क्षति, हानि, चुराई; -छान-(वि.) तितर-वितर, छिन्न-भिन्न।
 छौदा-(हि. वि.) झँसरा, अनेक छिद्रोंवाला।
 छौन-(हि. वि.) क्षीण, कृश, दुबला-पतला, सिथिल, मंद; -चंद, -चंद-हितीया का चन्द्रमा; -ता-(स्त्री.) देखें 'क्षीणता'।
 छौनना-(हि. क्रि. स.) काटकर अलगाना, छिन्न करना, बलपूर्वक किसी की वस्तु ले लेना, छेनी से पत्थर काटना, सिल, चबनी आदि को चूरदरा करना, पुरवट का पानी मोट से गिराना।
 छौन-शपट-(हि. स्त्री.) देखें 'छौना-जपटी'।
 छौना-(हि. क्रि. स.) स्पर्श करना, कृना; (पुं.) कुम्हार का मिट्टी गढ़ने का साँचा पट्टे का नीचे का भाग।

छीनाछीनी, छीनाझपटी—(हि. स्त्री.) किसी वस्तु को झपट कर छीन लेना ।
 छीप—(हि. वि.) क्षिप्र, वेगवान्; (स्त्री.) छाप, चिह्न, शरीर पर के छोटे चिह्न, मछली फँसाने की बंसी, छीप नामक वनस्पति ।
 छीपना—(हि. क्रि. स.) बंसी से मछली को फँसाकर जल से बाहर फेंकना ।
 छीपा—(हि. पुं.) दूध रखने की मटकी ।
 छीपी—(हि. पुं.) वस्त्र पर छोटें छापने-वाला; (स्त्री.) छोटी सी तश्तरी ।
 छीवर—(हि. स्त्री.) वह वस्त्र जिस पर बेल-वटे छपे हों ।
 छीमी—(हि. स्त्री.) मटर आदि की फली ।
 छोर—(हि. पुं.) देखें 'क्षीर', कपड़े का वह किनारा जहाँ उसकी लंबाई समाप्त होती है, छोर, कपड़े की बुनावट में कोर-कसर; (मुहा.)—डालना—किनारे का तागा निकालकर झालर बनाना ।
 छोरज—(हि. पुं.) क्षीरज, दधि, दही ।
 छोरधि—(हि. पुं.) क्षीरसागर, दूध का समुद्र ।
 छोरप—(हि. पुं.) बालक, बच्चा ।
 छोरफन—(हि. पुं.) दूध की मलाई ।
 छोरसागर—(हि. पुं.) देखें 'क्षीर-सागर' ।
 छीलक—(हि. पुं.) छिलका ।
 छीलना—(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु का छिलका उतारना, खुरच कर अलगाना, गले के भीतर चुनचुनाहट उत्पन्न करना ।
 छीलर—(हि. पुं.) छिछला गड़बा, लिलार, तलैया ।
 छीव—(हि. पुं.) देखें 'क्षीव' ।
 छुंगली—(हि. स्त्री.) घुंघरू लगी हुई अँगूठी ।
 छुआई—(हि. स्त्री.) छुआने की क्रिया या भाव, लेश, स्पर्श ।
 छुआना—(हि. क्रि. स.) देखें 'छुलाना' ।
 छुआछूत—(हि. स्त्री.) अस्पृश्य का स्पर्श, छूत का विचार, छूतछात ।
 छुईमुई—(हि. स्त्री.) एक छोटा कँटीला पौधा, लजालू, लज्जावती, बहुत ही लजाघुर या चिड़चिड़ा आदमी ।
 छुगनू—(हि. पुं.) घुंघरू ।
 छुच्छा—(हि. वि.) देखें 'छछ' ।
 छुच्छो—(हि. स्त्री.) पोली पतली नली, नरकट का टुकड़ा, नाक में पहिने का एक गहना, वह पतली नली जिसका एक छोर कटोरी के आकार का होता है, कौप ।
 छुछारना—(हि. क्रि. स.) कुत्ते को आवेष्ट के पीछे लगाना, ललकारना, डाँट-फटकार पुनाना ।

छुछमछली—(हि. स्त्री.) अंडे से फूटा हुआ मेढक का बच्चा जिसका आकार मछली सा होता है ।
 छुछहंड—(हि. स्त्री.) छूछी हाँडी ।
 छुछुंदर—(हि. पुं.) देखें 'छुछुंदर' ।
 छुछुआना—(हि. क्रि. अ.) व्यर्थ इधर-उधर घूमना, बनावटी प्रेम दिखलाना ।
 छुट—(हि. अव्य.) अतिरिक्त, सिवाय, छोड़कर ।
 छुटकाना—(हि. क्रि. स.) अलग करना, छोड़ना, पकड़े न रहना, साथ न लेना, मुक्त करना, छुटकारा देना ।
 छुटकारा—(हि. पुं.) बन्धन से मुक्ति, बाधा, आपत्ति या चिन्ता से निस्तार, किसी काम से छुट्टी ।
 छुटना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'छूटना' ।
 छुटपन—(हि. पुं.) लघुता, छोटाई, लड़कपन, बचपन ।
 छुटवाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'छोड़वाना' ।
 छुटाई—(हि. स्त्री.) देखें 'छोटाई' ।
 छुटाना—(हि. क्रि. स.) छुड़ाना, बंधन से मुक्त करना ।
 छुटी—(हि. स्त्री.) व्याज की वह रकम जो छोड़ी जाय ।
 छुट्टा—(हि. वि.) जो बँधा न हो, अकेला, जिसके पास असवाव न हो;—पान—(पुं.) पान का पत्ता, बिना लगा पान;—छरिदा—(वि.) अकेला, जिसके पास यात्रा की कोई सामग्री न हो; छुट्टे हाथ-खाली हाथ ।
 छुट्टी—(हि. स्त्री.) मुक्ति, छुटकारा, अवकाश, कार्यालय के बन्द रहने का दिन, काम से निवृत्ति, प्रस्थान करने की आज्ञा; (मुहा.)—पर जाना—अवकाश ग्रहण करना;—पाना—पिंड छूटना, झड़ट से वरी होना;—मनाना—अवकाश के दिनों में आनन्द लेना;—होना—काम समाप्त होना ।
 छुड़वाना—(हि. क्रि. स.) छोड़ने का काम कराना, छोड़ने के लिये उद्यत करना ।
 छुड़ाई—(हि. स्त्री.) छोड़ने या छुड़ाने की क्रिया, छोड़ाई, मुक्ति ।
 छुड़ाना—(हि. क्रि. स.) दूसरे की पकड़ से अलग करना, फँसी या उलझी हुई वस्तु को पृथक् करना, दूसरे के अधिकार से मुक्त करना, नौकरी से हटाना, किसी प्रवृत्ति को दूर कराना, कार्य से अलग करना, किसी वस्तु पर पोते हुए रंग आदि को दूर करना ।
 छुड़ीती—(हि. स्त्री.) बंधन से मुक्त करने

के लिये दिया हुआ धन, ऋण का शेष जो छोड़ दिया जाय ।
 छूत—(हि. स्त्री.) क्षुधा, भूख ।
 छूतिहर—(हि. पुं.) वह पात्र जो अशीच या छूत से अशुद्ध हो गया हो कुपात्र ।
 छूतिहा, छूतहा—(हि. वि.) अस्पृश्य, दूषित, कलंकित, जिसमें छूत लगे या हो, स्पर्शज (रोग); (पुं.) शोरे का नामक ।
 छुद्र—(हि. पुं.) देखें 'क्षुद्र' ।
 छुद्रावल—(हि. स्त्री.) करवनी ।
 छुधा—(हि. स्त्री.) क्षुधा, भूख ।
 छुधित—(हि. वि.) क्षुधित, भूखा ।
 छुनछुनाना—(हि. क्रि. अ.) छुनछुन करना ।
 छुनमुन, छुनन-मुनन—(हि. पुं.) बच्चे के पैर के आमोषण का शब्द ।
 छुप—(हि. पुं.) क्षुप, झाड़ी, वायु, स्पर्श ।
 छुपना, छुपाना—(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'छिपना, छिपाना' ।
 छुवुक—(हि. पुं.) चिवुक, टुडुडी ।
 छुमित—(हि. वि.) क्षुमित, चंचल-चिन्त, धवड़ाया हुआ ।
 छुभिराना—(हि. क्रि. अ.) क्षुब्ध होना, चंचल होना ।
 छुरघार—(हि. स्त्री.) छुरे की धार ।
 छुरा—(हि. पुं.) नाई का उस्तरा, बेंट लगा हुआ आक्रमण करने का एक धारदार अस्त्र ।
 छुरित—(सं. पुं.) लास्य नामक नृत्य का एक भेद, विजली की चमक; (वि.) जटित, खचित ।
 छुरी—(हि. स्त्री.) फल, तरकारी आदि काटने का बेंटदार चाकू; (मुहा.)—चलगना—छुरी से आक्रमण करना, किसी को अधिक कष्ट देना;—तेज करना—हानि पहुँचाने की तैयारी करना;—फेरना—किसी का अनिष्ट करना ।
 छुरेबाजी—(हि. स्त्री.) छुरे की लड़ाई, दंगे आदि में लुक-छिपकर छुरा मोकना ।
 छुलछुलाना—(हि. क्रि. अ.) थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना, इतराना ।
 छुलाना—(हि. क्रि. स.) स्पर्श कराना ।
 छुवना—(हि. क्रि. स.) देखें 'छूना' ।
 छुवाछूत—(हि. स्त्री.) देखें 'छुआछूत' ।
 छुवाना—(हि. क्रि. स.) छुलाना, स्पर्श कराना ।
 छुवाव (हि. पुं.) संलग्न, संबंध, लगाव ।
 छुहना—(हि. क्रि. अ., स.) छुआ जाना, रंगा जाना, लोपा-पोता जाना, छूना ।
 छुहाना—(हि. क्रि. अ., स.) स्नेह या अनुग्रह करना, छोह करना, चूना, रंग आदि

पाना जाना; रंग, चूना आदि पोतवाना, नकदी बनाना।

छुहारा—(हि. पुं.) एक प्रकार का लज्जर, पिट-मज्जर का बाल।

छुहो—(हि. स्त्री.) सफेद मिट्टी, खडिया।

छुला—(हि. वि.) रिक्त, पोथ्या, निःसत्व, निःसाग, निश्चय; (मुहा.) छुंछुहाय-विना झणितार का हाथ, द्रव्य से खाली हाथ।

छुछो—(हि. स्त्री.) देखें 'छुछो'।

छू—(हि. पुं.) मन्त्र पढ़कर मुख से हवा फेंकने का मन्त्र, मन्त्र की फूँक; (मुहा.)—बनाना-भंग बनाना;—मंतर होना—जन्मी ने लुप्त होना;—होना—चले जाना।

छूट—(हि. वि.) भंग।

छूट—(हि. स्त्री.) मुक्ति, छुटकारा, अवकाश, वेनदार के अणु की छुटीती, किसी कार्य या उमके किसी अंग को भूल जाने का भाव, स्वतन्त्रता, गाली-गलौज, स्त्री-भ्रूष का परस्पर संबंध-त्याग, छँटा या व्यंग्य, का एक व्यायाम।

छूट-छुटाव—(हि. पुं.) संबंध या नाता का भंग, नाता-तोड़।

छूटना—(हि. क्रि. अ.) किसी वंशी या फेंसी हुई वस्तु का अलग होना, लगाव में न रहना, दूर होना, किसी बाँधनेवाली वस्तु का अलग होना, छुटकारा होना, प्रस्थान करना, विमुक्त होना, बिछड़ना, बन्द होना, दूर तक जानेवाले अस्त्र का चल पड़ना, किसी वस्तु का वेग से निकलना, रस-रसकर निकलना, भेष रहना, किसी काम का मूल से न हिया जाना, गीकरी से हटाया जाना, जीविका का न रहना, पयुओं का जोड़ा जाने से अलग होना, नियम भंग होना, किसी वस्तु का वेग के साथ निकलना; (मुहा.)—शरीर वा नाड़ी छूटना—मृत्यु होना, नाड़ी की गति बन्द होना; बंदूक छूटना—बंदूक ने गोली निकल कर बन्द होना।

छूत—(हि. स्त्री.) सर्प, संसर्ग, छुआई, अमृत्य का संसर्ग, आविष्ट वस्तु के हटने का दोष, नून-भ्रत लगने का बुरा प्रकार;—का रोग—मंक्रमक रोग; (मुहा.)—उतारना—अमृत्यता दूर करना;—गोड़ना—नून-भ्रत की बाधा का छुड़-पूत में निवारण करना।

छूना—(हि. वि. न.) भंग करना, उंगलियों से भंग करना, धीरे से किसी को पकड़ना, भोग का काम में जाना, खींचना, पीना, पीने में मारना, उद्विग्न में किसी

के बराबर पहुँचना; (मुहा.) आकाश छूना—बहुत ऊँचाई तक पहुँचना; छून से होना—कृतुमती या रजस्वला होना।

छुरा—(हि. पुं.) देखें 'छुरा'।

छुरी—(हि. स्त्री.) देखें 'छुरी'।

छुकना—(हि. क्रि. स.) आच्छादित करना, घेरना, गति का अवरोध करना, रोकना, रेखाओं से घेरना, लिखे हुए अक्षर या वाक्य को लकीर खींचकर काटना।

छेक—(हि. पुं.) छिद्र, विभाग, कटाव, घर का पालतू पशु।

छेकानुप्रास—(सं. पुं.) वह अनुप्रास जिसके एक ही चरण में दो या अधिक वर्णों की आवृत्ति कुछ अन्तर पर होती है।

छेकपल्लवि—(सं. स्त्री.) वह अलंकार जिसमें दूसरे के यथोचित अनुमान का खंडन अथवा उक्ति से किया जाता है।

छेकोक्ति—(सं. स्त्री.) वह लोकोक्ति जिससे दूसरे अर्थ की ध्वनि निकलती हो।

छेटा—(हि. स्त्री.) बाधा, अवरोध, रुकावट।

छेड़—(हि. स्त्री.) संकुपित करने की क्रिया, हँसी-दिल्लगी करने या कुढ़ाने का काम, चिढ़ानेवाली बात, विरोध, आपस का झगड़ा, चुटकी बजाने के लिये सितार आदि के तारों का स्पर्श; (मुहा.)—निकालना—चिढ़ानेवाली बात की खोज करना।

छेड़खानी, छेड़छाड़—(हि. स्त्री.) छेड़ने या चिढ़ाने की बात या हरकत।

छेड़ना—(हि. क्रि. स.) छूना, दवाना, कोंचना, भड़काना, व्यग्र करना, चिढ़ाना, कुढ़ाना, चुटकी लेना, कोई कार्य आरंभ करना, बाजे को बजाने के लिये स्पर्श करना, छेद करना, फोड़ा चीरना।

छेड़वाना—(हि. क्रि. स.) छेड़ने का काम दूसरे से कराना।

छेड़ा—(हि. पुं.) रस्सी, साँट।

छेत्र—(हि. पुं.) देखें 'क्षेत्र'।

छेद—(सं. पुं.) काटने या छेदने का काम, ध्वंस, नाश, गणित में भाजक, राँट, टुकड़ा, विषय, छिद्र, कुहर, दोष, बिल।

छेदक—(सं. वि.) छेद करनेवाला, विभाजक, छेद।

छेदन—(सं. पुं.) काटने या चुमाने की क्रिया, चौरफाड़, नाग, विध्वंस, काटने का अस्त्र।

छेदना—(हि. क्रि. न.) किसी नतीली वस्तु को चुनाकर छिद्र करना, घेरना, वेदना, काटना, घाव करना, छिद्र करना।

छेदा—(हि. पुं.) घुन नामक कीड़ा।

छेद्य—(सं. वि.) छेदनीय, छेद करने योग्य।

छेना—(हि. पुं.) फटा हुआ दूध जिसका पानी निचोड़कर अलग दिया गया हो, फटे दूध का खोया, पनीर; (क्रि. स.) घाव करना, काटना।

छेनी—(हि. स्त्री.) पत्थर, धातु आदि काटने का अस्त्र, टाँकी, पोस्ते को चीरने की नहरली।

छेमंड—(हि. वि.) बिना माँ-बाप का लड़का।

छेम—(हि. पुं.) देखें 'क्षेम'।

छेमकरी—(हि. स्त्री.) क्षेमकरी, सफेद चील।

छेरना—(हि. क्रि. अ.) अपच के कारण वारंवार शौच होना।

छेरी, छेली—(हि. स्त्री.) बकरी, अजा।

छेव—(हि. पुं.) वार, चोट, घाव, आने-वाली आपत्ति, अनिष्ट; छल-छेव—

(पुं.) कपट व्यवहार।

छेवन—(हि. पुं.) कुम्हार का डोरा जिससे वह चाक पर के बरतन काटता है।

छेवना—(हि. पुं.) ताड़ी; (क्रि. स.) छिल करना, चिह्नित करना, काटना, फेंकना, मिलाना, ऊपर डालना।

छेवर—(हि. पुं.) बल्कल, छिलका, त्वचा, छाल, चमड़ा।

छेवा—(हि. पुं.) छीलने या काटने का काम, घाव, छेव।

छेह—(हि. पुं.) देखें 'छेव', खंडन, नाश, नाच का एक भेद; (वि.) न्यून, टुकड़ा किया हुआ; (स्त्री.) राख।

छेहर—(हि. पुं.) छाया, साया।

छे—(हि. वि.) देखें 'छः'; (पुं.) देखें 'क्षय'।

छेना—(हि. क्रि. अ.) क्षीण होना, नष्ट होना, कम होना।

छेया—(हि. पुं.) बच्चों के लिये प्यार का मन्त्र।

छेला—(हि. पुं.) छेला, बना-ठना सुन्दर मनुष्य, वाँका;—चिकनियाँ—(पुं.) बना-ठना मनुष्य;—छवीला—(पुं.) छेला, बना-ठना सुधा पुरप।

छेला—(हि. पुं.) सुन्दर वस्त्र पहिना हुआ मनुष्य, वाँका।

छोंकर, छोंकरा—(हि. पुं.) शमी का वृक्ष।

छोंड़ा—(हि. पुं.) दही मथने की लकड़ी, मथानी।

छोंड़ि—(हि. स्त्री.) देखें 'छोंड़ा'।

छो—(हि. पुं.) छोह, प्रीति, दया, क्षेम।

छोई—(हि. पुं.) ऊपर की पत्ती, बिना रस की उम की गेंदरी, मीठी।

छोकड़ा (रा)—(हि. पुं.) बालक, लड़का,

अनुभवहीन युवक; -पन-(पु.) लड़क-पन, नादाना।

छोकरी, छोकड़ी-(हि. स्त्री.) लड़की, बेटा।

छोकला-(हि. पुं.) बल्कल, छिलका।

छोटपन-(हि. पुं.) देखें 'छोटापन'।

छोटफन्नी-(हि. स्त्री.) छोटे मुँह की गगरी।

छोट भैया-(हि. पुं.) पद में छोटा मनुष्य, कम हैसियत का आदमी।

छोटा-(हि. वि.) विस्तार या आकार में न्यून, डील-डौल में कम, अल्पवय का, पद या प्रतिष्ठा में कम, जो महत्त्व का न हो, जिसमें गम्भीरता तथा शिष्टता का अभाव हो; -ई-(स्त्री.) लघुता, क्षुद्रता, छोटापन, नीचता; -कपड़ा-

(पु.) चोली, अँगिया; -पन-(पुं.) लघुता, छोटाई, लड़कपन; -पाट-(पुं.) एक प्रकार का रेशम का कीड़ा;

-मोटा-(वि.) छोटा-सा, सामान्य।

छोटी-(वि. स्त्री.) 'छोटा' का स्त्री. रूप;

-इलायची-(स्त्री.) सफेद गुजराती, इलायची; -जाति-(स्त्री.) नीच जाति;

-बात-(स्त्री.) ओछेपन या क्षुद्रता की सूचक बात; -हाजिरी-

(स्त्री.) भारत में रहनेवाले अंगरेजों का प्रातःकाल का सोजन।

छोड़-छिटी-(हि. स्त्री.) नाता या संबंध का त्याग।

छोड़ना-(हि. क्रि.स.) पकड़ से अलग करना, चिपकी हुई वस्तु को पृथक् करना, किसी स्थान पर पड़े रहने देना, साथ न ले जाना, परित्याग करना, पास न रखना, ग्रहण न करना, छूट देना, अपराध क्षमा करना, बंधन से निर्मुक्त करना, छूटकारा देना, प्रस्थान करना, दूर तक जानेवाले अस्त्र को फेंकना, आगे बढ़ जाना, बचा रखना, भीतर से वेग सहित बाहर आना, किसी काम को बन्द करना, किसी कार्य को मूल से न करना, ऊपर से गिराना, किसी व्याधि का दूर होना;

(मुहा.) स्थान छोड़ना-किसी स्थान से अन्यत्र चले जाना; किसी के पीछे छोड़ना-पकड़ने के लिये दाँड़ना;

छोड़कर-(अव्य.) अतिरिक्त, सिवाय।

छोड़वाना-(हि. क्रि.स.) छोड़ने का काम दूसरे से कराना।

छोड़ना-(हि. क्रि.स.) देखें 'छुड़ाना'।

छोत-(हि. स्त्री.) छूत।

छोनिप-(हि. पुं.) सूपति, राजा।

छोनी-(हि. स्त्री.) पृथ्वी, भूमि।

छोप-(हि. पुं.) किसी गीली वस्तु की मोटी परत जो किसी वस्तुके ऊपर चढ़ाई जाती है, मोटा लेप चढ़ाने का काम, प्रहार, आघात, वार, छिपाव, बचाव; छोप-छाप-(पुं.) मरम्मत, टूटा-फूटा भाग भरना।

छोपना-(हि. क्रि.स.) मोटी तह चढ़ाना, लेप करना, गीली मिट्टी का लोंदा रखना, थोपना, किसी बात को छिपाना, आक्रमण से रक्षा करना, आच्छादित करना, छेकना, ढाँपना, ग्रसना, घर दवाना; (मुहा.)

-छापना-मरम्मत करना, टूटा-फूटा भाग भरना।

छोपा-(हि. पुं.) पाल के चारोंकोनों पर की रस्सियाँ जो इसे ऊपर चढ़ाती हैं।

छोपाई-(हि. स्त्री.) छोपने की क्रिया या पारिश्रमिक।

छोभ-(हि. पुं.) क्षोभ, चित्त की खलवली।

छोभना-(हि. क्रि. अ.) क्षुब्ध होना, चित्त का विचलित होना।

छोभित-(हि. वि.) विचलित, चंचल।

छोभ-(हि. वि.) चिकना, कोमल।

छोर-(हि. पुं.) किसी वस्तु का किनारा जहाँ उसकी लम्बाई का अन्त हो, विस्तार का सीमांत, नोक, किनारे पर का सूक्ष्म भाग; ओर-छोर-(पुं.) आदि-अन्त।

छोरना-(हि. क्रि.स.) बन्धन अलग करना, बंधन मुक्त करना, उलझन हटाना, छीनना, हरण करना।

छोरा-(हि. पुं.) बालक, लड़का, छोकड़ा।

छोरा-छोरी-(हि. स्त्री.) नोच-खसोट, वखेड़ा, छीना-छीनी, झंझट।

छोरी-(हि. स्त्री.) लड़की, छोकड़ी।

छोल-(हि. स्त्री.) छिल जाने का चिह्न, धाव।

छोलदारी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छोटा खेमा या तंबू।

छोलना-(हि. क्रि.स.) छीलना।

छोलनी-(हि. स्त्री.) छोलने का उपकरण, हलवाई की खुरचनी।

छोला-(हि. पुं.) ऊँख छोलनेवाला, चना।

छोह-(हि. पुं.) स्नेह, प्रेम, ममता, दया, कृपा।

छोहना-(हि. क्रि. अ.) क्षुब्ध होना, चंचल होना, प्रेम दिखलाना।

छोहरा-(हि. पुं.) बालक, लड़का, छोकड़ा।

छोहरी-(हि. स्त्री.) बालिका, लड़की।

छोहाना-(हि. क्रि. अ.) प्रेम दिखलाना, अनुग्रह करना, दया दिखलाना।

छोहारा-(हि. पुं.) देखें 'छुहारा'।

छोहिनी-(हि. स्त्री.) देखें 'अधोहिणी'।

छोही-(हि. वि.) प्रेमी, स्नेही, अनुरागी;

(स्त्री.) रस निकाली हुई ऊँख की सीठी।

छौक-(हि. स्त्री.) तड़का, बघार।

छौकना-(हि. क्रि.स.) हींग, जीरा, मरचा आदि से बघार देना।

छौड़ा-(हि. पुं.) अन्न रखने का खत्ता, गाड़।

छौकना-(हि. क्रि.अ.) किसी पशु का चारों

पैर उटाकर किसी की ओर झपटना।

छौना-(हि. पुं.) पशु का बच्चा।

छौर-(हि. पुं.) देखें 'धौर'।

छौलदारी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छोटा तंबू या खेमा।

ज

ज-हिन्दी भाषा का एक व्यंजन वर्ण जो चवगं का तीसरा अक्षर है।

इसका उच्चारण-स्थान तालु है; (सं. पुं.) मृत्युंजय, विष्णु, पिता, जन्म, विष, तेल, पिशाच, वेग, मुक्ति; (वि.) वेग-युक्त, जीतनेवाला; (प्रत्य.) में उत्पन्न।

जंकनात-(अं. पुं.) वह स्टेगन जहाँ दो-या अधिक रेल लाइनें मिली हों।

जंग-(फ्रा. स्त्री.) युद्ध, लड़ाई; (फ्रा. पुं.) मोरचा, वातु पर जमा मल।

जंगम-(सं. वि.) चल (प्राणी, संपत्ति आदि), स्थावर का उलटा।

जंगरा-(हि. पुं.) मूँग, मटर, उर्द इत्यादि के डंठल जो दाना निकाल लेने पर बच जाते हैं।

जंगरत-(हि. वि.) परिश्रमी।

जंगल-(हि. पुं.) वन, अरण्य; -में मंगल-

(पुं.) निर्द्वेष शांति या चैन।

जंगली-(हि. पुं.) खिड़की आदि में लगी हुई छड़ों की पंक्ति, जालीदार खिड़की, साड़ी, दुपट्टे आदि के किनारे पर काड़ा हुआ बेल-बूटा, एक राग का नाम, जंगरा।

जंगली-(हि. वि.) जंगल में होनेवाला, जंगल-संबंधी, आपसे आप उगनेवाले (पीपे), जंगल में रहनेवाला, बगैला, जो पालतू न हो; -जानवर-(पुं.) अन्य पशु

जंगा-(हि. पुं.) बृंहट का दाना।

जंगार-(फ्रा. पुं.) ताँद्रे का कसाव, तृतिया, ऐना रंग।

जंगारी-(हि. वि.) नीले रंग का, नीला।

जंगाल-(हि. पुं.) देरों 'जंगार'।

जंगाली-(हि. पुं.) नीले रंग का एक प्रकार का चमकीला रंगमौ वस्त्र।

जंगी-(फ्रा. वि.) कट्ट-संबंधी, नैतिक, फौजी; -जहाज(पुं.) वृष्टोत्त; -वेड़ा-

(पुं.) जंगी जहाजों का वेड़ा।

जंघा—(हि. स्त्री.) जाँघ ।
 जंघार—(हि. स्त्री.) जाँघ का फोड़ा ।
 जंघारा—(हि. पुं.) राजपूतों की एक जाति ।
 जंघिया—(हि. स्त्री.) जाँघ तक का चुस्त पायजामा ।
 जंघना—(हि. वि. अ.) जाँचा जाना, जाँच में ठीक ठहरना, उचित जान पड़ना या प्रतीत होना, पसंद आना ।
 जंघा—(हि. वि.) मुपरीक्षित, जंघा हुआ, अन्त, ठीक-ठीक ।
 जंजर, जंजल—(हि. वि.) पुराना और जंजर नंजाल—(हि. पुं.) संघट, प्रपंच, बग्गेड़ा, फंगाय, ललजान, पानी का नंबर, एक प्रकार की लंबी नली की बंदूक, बड़ा जाल, बड़े मुँह की तोप; (मुहा.)—में पड़ना—मंकट में पड़ना ।
 जंजालिया, जंजाली—(हि. वि.) उपद्रवी, अंगड़ाप, बगैरिया ।
 जंजीर—(हि. स्त्री.) बेंड़ी, शृंखला, ताँकल ।
 जंजीरा—(हि. पुं.) जंजीर के समान सिलाई ।
 जंजीरी—(हि. वि.) जिसमें जंजीर लगी हो ।
 जंतर—(हि. पुं.) यन्त्र, गले में पहिने का एक गहना, जंतर-मंतर, धीन बाजा; —मंतर—(पुं.) यंत्र-मंत्र, जादू-टोना, वेधशाळा ।
 जंतरा—(हि. स्त्री.) सोनार का तार महीन करने का यंत्र, तिथि-यंत्र, पंजिका; (पुं.) जादूगर, धीन आदि बाजा बजानेवाला; (मुहा.)—म सोचना—तार को जंतरा में नीचकर पतला करना ।
 जंतरार—(हि. स्त्री.) जाँता गाड़ने का स्थान ।
 जंता—(हि. पुं.) पक्के रोहे की छेद की हुई पट्टी जिससे तार सोचकर महीन किया जाता है; (वि.) दंड देनेवाला ।
 जंजाना—(हि. वि. अ.) जंति में पिस जाना ।
 जंती—(हि. स्त्री.) देवी 'जंतरा', माता, माँ ।
 जंघु—(मं. पुं.) पशु, प्राणी, जानवर, जीव ।
 जंघ—(हि. पुं.) कल, यंत्र, ताला; —मंत्र—(पुं.) देव 'जंतर-मंतर' ।
 जंघना—(हि. वि. मं.) ताला लगाना, ताली में बंध करना ।
 जंघिया—(हि. वि.) बंध किया हुआ, बंधा हुआ ।
 जंघी—(मं. पुं.) धीन आदि बाजा बजानेवाला; (वि.) जकड़बंद करनेवाला; (स्त्री.) देवी 'जंतरा' ।
 जंघना—(हि. पुं.) बंध, बंधा, ताला ।
 जंघार—(हि. पुं.) धीन, ताला, ताला, ताला ।
 जंघाल—(हि. वि.) बंधनी का फूल ।
 जंघा—(हि. स्त्री.) बंधनी ।

जंघीर—(हि. पुं.) बड़ा नीबू, वनतुलसी ।
 जंघु, जंघुक—(सं. पुं.) जामुन का पेड़, इसका फल, सियार, शृगाल ।
 जंघुरा—(हि. पुं.) जिस चखें पर तोप चढ़ाई जाती है, भेंवरकली, एक तरह की छोटी सैंडसी, बाँक ।
 जंभ—(हि. पुं.) जयड़ा, दाढ़, जंभीरी (कागजी) नीबू, जंभाई ।
 जंभन—(सं. पुं.) जम्हाई ।
 जंभा—(सं. स्त्री.) जम्हाई ।
 जंभाई—(हि. स्त्री.) आलस्य आदि के कारण मुख खुलने की एक स्वाभाविक क्रिया, उवासी ।
 जंभाना—(हि. क्रि. अ.) जंभाई लेना, उवासी लेना ।
 जंभारि—(हि. पुं.) इन्द्र, विष्णु, यज्ञ, अग्नि ।
 जई—(हि. पुं.) जव की जाति का एक अन्न, जव का छोटा अंकुर; (मुहा.)—डालना—अँखुवा निकलने के लिये किसी अन्न को तर करना; —लेना—यह देखने के लिये किसी अन्न को बोना कि उसमें अँखुआ निकलता है या नहीं ।
 जईफ—(अ. वि.) बूढ़ा, अरावत ।
 जईफी—(अ. स्त्री.) बूढ़ावस्था, अश्वयता ।
 जऊ—(हि. अव्य.) यद्यपि ।
 जकंदना—(हि. क्रि. अ.) उछाल मारना, कूदना, टूट पड़ना ।
 जकंदनि—(हि. स्त्री) दीड़-धूप ।
 जफ—(हि. पुं.) भूत, प्रेत, यक्ष, कंजूस आदमी; (स्त्री.) हठ, जिद, धुन; (मुहा.)—यघना—धुन लगना ।
 जकड़—(हि. स्त्री.) जकड़ने का भाव; (मुहा.)—बंद करना—कसकर बाँधना ।
 जकड़ना—(हि. क्रि. स.) कसकर बाँधना, अंग का टस से मस न होना, अकड़ना ।
 जकना—(हि. क्रि. अ.) नीचकवा हाना ।
 जकित—(हि. वि.) विस्मित, चकित, व्यग्र ।
 जकुट—(हि. पुं.) कुक्कुर, कुत्ता ।
 जकधी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की बुलबुल ।
 जपत—(हि. पुं.) देवी 'जगत' ।
 जस—(हि. पुं.) देवी 'यक्ष' ।
 जसण—(सं. पुं.) मक्षण, मोजन ।
 जसमा—(हि. पुं.) देव 'यक्षमा' ।
 जसम—(हि. पुं.) धाव, मानसिक चक्रण; (मुहा.)—ताजा या हरा होना—श्रीती हुई आपत्ति का पुनरागमन ।
 जगमी—(हि. वि.) धाव लगा हुआ, धाकल ।
 जगौरा, जखड़ा—(हि. पुं.) नमूह, अमाव ।
 जगम, जगमी—(फा. पुं. वि.) देवी 'जगम',

'जखमी' ।
 जग—(हि. पुं.) जगत्, संसार, जन-समुदाय, संसार के लोग, देखें 'यज्ञ' ।
 जगकर—(सं. पुं.) ब्रह्मा ।
 जगच्चक्षु—(सं. पुं.) सूर्यनारायण ।
 जगजगा—(हि. पुं.) पत्नी; (वि.) जग-मगाता हुआ, चमकीला ।
 जगजगाना—(हि. क्रि. अ.) चमकना, जग-मगाना ।
 जगजीवन—(सं. पुं.) जगत् के जीवन स्वरूप परमेश्वर ।
 जगजोनि—(हि. पुं.) जगयोनि, ब्रह्मा ।
 जगज्जननी—(सं. स्त्री.) संसार की जननी ।
 जगज्जयी—(सं. वि.) संसार को जीतनेवाला ।
 जगसंप—(हि. पुं.) एक प्रकार का प्राचीन ढोल ।
 जगड्वाल—(हि. पुं.) व्यर्थ का आडम्बर ।
 जगण—(सं. पुं.) पिगल शास्त्र के अनुसार तीन अधरों का एक गण जिसके आदि-अन्त के अक्षर लघु तथा मध्य का अक्षर गुरु होता है ।
 जगत—(हि. स्त्री.) कुएँ के ऊपर का चारों ओर का चबूतरा ।
 जगतसेठ—(हि. पुं.) बहुत बड़ा धनवान्, महाजन ।
 जगतारन—(हि. वि.) संसार को तारनेवाला ।
 जगती—(सं. स्त्री.) संसार, पृथ्वी, एक वैदिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में बारह अक्षर होते हैं ।
 जगतीतल—(सं. पुं.) भूमि, पृथ्वी ।
 जगत्—(सं. पुं.) संसार, दुनिया; —कर्ता—(पुं.) संसार का स्वामी; —कारण—(पुं.) सृष्टि का कारण-स्वरूप; —तारण—(पुं.) संसार को तारनेवाले परमेश्वर; —प्रसिद्ध—(वि.) विश्व-विख्यात; —साक्षी—(पुं.) सूर्य; —लप्टा—(पुं.) संसार के सृष्टि-कर्ता, परमेश्वर ।
 जगदंतक—(सं. पुं.) मृत्यु, यम ।
 जगदंबा, जगदंबिका—(सं. स्त्री.) दुर्गा ।
 जगद—(हि. पुं.) रक्षक, पालक ।
 जगदादि—(सं. पुं.) परमेश्वर, ब्रह्मा ।
 जगदाधार—(मं. पुं.) परमेश्वर, वायु, हवा ।
 जगदानंद—(सं. पुं.) परमेश्वर ।
 जगदीश, जगदीश्वर—(सं. पुं.) परमेश्वर, विष्णु, जगन्नाथ ।
 जगदीश्वरी—(सं. स्त्री.) भगवती, दुर्गा ।
 जगद्गुरु—(सं. पुं.) परमेश्वर, महादेव, शान्द, अत्यन्त पूजनीय पुरुष, मंगलनाम की गद्दी के गहने की उपाधि, तिमी

धार्मिक संप्रदाय के आचार्य की उपाधि ।
 जगद्गौरी—(सं. स्त्री.) दुर्गा ।
 जगद्धाता—(सं. पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ।
 जगद्धात्री—(सं. स्त्री.) दुर्गा, सरस्वती ।
 जगद्वल—(सं. पुं.) वायु, हवा ।
 जगद्योनी—(सं. पुं.) शिव, महादेव,
 ब्रह्मा, विष्णु, परमेश्वर, पृथ्वी ।
 जगद्वहा (सं. पुं.) पृथ्वी, भूमि ।
 जगद्विनाश—(सं. पुं.) प्रलय-काल ।
 जगाना—(हि.क्रि.अ.) नींद से उठना, साव-
 धान होना, सचेत होना, देवी-देवता का
 अधिक प्रभाव दिखलाना, चमकना,
 जगमगाना, अग्नि का जलना, उत्तेजित
 होना, उभड़ना ।
 जगन्नाथ—(सं. पुं.) संसार का स्वामी,
 ईश्वर, विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति ।
 जगन्निधता—(सं. पुं.) ईश्वर, परमात्मा ।
 जगन्निवास—(सं. पुं.) परमेश्वर, विष्णु ।
 जगन्मय—(सं. पुं.) विष्णु ।
 जगन्मयी—(सं. स्त्री.) सम्पूर्ण विश्व को
 चलानेवाली शक्ति, लक्ष्मी ।
 जगन्माता—(सं. स्त्री.) दुर्गा ।
 जगन्मोहिनी—(सं. स्त्री.) महामाया, दुर्गा ।
 जगप्रान—(हि. पुं.) वायु ।
 जगमग—(हि. वि.) प्रकाशित, चमकीला ।
 जगमगाना—(हि.क्रि.अ.) प्रकाश से किसी
 वस्तु का चमकना, झलकना ।
 जगमगाहट—(हि. स्त्री.) चमक, चमकमाहट ।
 जगर—(सं. पुं.) कवच ।
 जगरनाथी—(हि. पुं.) देखें 'जगन्नाथी' ।
 जगर-मगर—(हि. वि.) देखें 'जगमग' ।
 जगरा—(हि. स्त्री.) खजूर की खाँड़ ।
 जगल—(सं. पुं.) कल्क, मद्य, गोबर ।
 जगवाना—(हि.क्रि.स.) निद्रा भंग कराना,
 नींद से जगाना ।
 जगह—(हि. स्त्री.) स्थान, स्थल, अवकाश
 या खाली स्थान, अवसर, समाई,
 नौकरी, पद, ओहदा ।
 जगहर—(हि. स्त्री.) जगने की अवस्था ।
 जगात—(हि. पुं.) दान, कर ।
 जगाती—(हि. पुं.) दान या कर उगाहनेवाला
 कर्मचारी ।
 जगाना—(हि.क्रि.स.) जागने के लिये
 किसी को प्रेरित करना, चेतन्य करना,
 होश दिलाना, उत्तेजित करना, सुल-
 गाना, फिर से ठीक स्थिति में लाना ।
 जागर—(हि. स्त्री.) जागरण, जागृति ।
 जागोर—(हि. स्त्री.) देखें 'जागीर' ।
 जागौला—(हि. वि.) जागने से अलसाया
 हुआ, उमीदा ।

जग्धि—(सं. स्त्री.) खाने की क्रिया, भोजन ।
 जग्धि—(सं. पुं.) वायु, हवा ।
 जग्धि—(हि. पुं.) देखें 'यज' ।
 जघन—(सं. पुं.) कमर के नीचे का भाग,
 नितंब, चूतड़; -चपला—(स्त्री.)
 कुलटा स्त्री, आर्या छन्द का एक भेद ।
 जघय—(सं. वि.) अन्तिम, आखिरी,
 त्याज्य, क्षुद्र, नीच, निकृष्ट, बहुत
 बुरा; (पुं.) शूद्र जाति, हीन वर्ण;
 -ज—(पुं.) अन्त्यज, शूद्र ।
 जग्धि—(सं. पुं.) वध करनेवाला, वह अस्त्र
 जिससे वध किया जाय ।
 जघना—(हि. क्रि.अ.) देखें 'जघना' ।
 जग्धि—(फा. स्त्री.) वह स्त्री जिसे हाल
 ही में वच्चा पैदा हुआ हो, सद्यः प्रसूता;
 -खाना—(पुं.) प्रसव-गृह, सौरी ।
 जग्धि—(हि. पुं.) देखें 'यक्ष' ।
 जज (अं. पुं.) जिले का प्रधान न्यायाधीश ।
 जजबा—(हि. पुं.) घोखा, रोप ।
 जजमान—(हि. पुं.) देखें 'यजमान' ।
 जजो—(हि. स्त्री.) जज की कचहरी, जज
 की अदालत, जज का काम, जज का मद ।
 जजना—(हि. क्रि.स.) ठगना, घोखा देकर
 कुछ ले लेना, देखें 'जड़ना' ।
 जजल—(हि. स्त्री.) झूठमूठ की बात, वकवाद ।
 जजल—(सं. स्त्री.) एक में एक उलझे हुए
 सिर के बाल, लट, जड़ के पतले सूत्र,
 केवाँच, काँछ, जटामासी, बालझड़,
 उलझे हुए रेशे ।
 जजल-चीर—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 जजलजल—(सं. पुं.) जटा का समूह,
 महादेव जी की जटा ।
 जजलक, जजलटीर—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 जजलधर—(सं. पुं.) महादेव, शिव ।
 जजलधारी—(सं. वि.) जिसके जटा हों;
 (पुं.) शिव, महादेव ।
 जजलना—(हि. क्रि.अ.) ठगा जाना, धोखे
 में आकर हानि उठाना ।
 जजलमाली—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 जजलमासी—(हि. स्त्री.) एक वनस्पति की
 सुगन्धित जड़, बालझड़ ।
 जजलयु—(सं. पुं.) वह गृध्र जो रावण से
 लड़ा था जब रावण सीता को हरण
 करके ले जा रहा था ।
 जजल—(सं. वि.) जटधारी; (पुं.) वरगद
 का वृक्ष ।
 जजल—(हि. स्त्री.) कुम्हार की पात्र
 गढ़न की मिट्टी ।
 जजलसुर—(सं. पुं.) एक राक्षस जिमको
 भीम ने मार डाला था ।

जजल—(सं. वि.) जड़ा हुआ, खचित ।
 जजल—(सं. वि.) जटावाला, अत्यन्त
 कठिन, क्रूर, हिंसक, दुर्वोध; (पुं.) सिंह,
 महादेव ।
 जजलता—(सं. स्त्री.) कठिनाई, दुर्वोधता,
 उलझन ।
 जजला—(सं. स्त्री.) ब्रह्मचारिणी, पिप्पली ।
 जजली—(सं. स्त्री.) जटामासी ।
 जजल—(सं. पुं.) शरीर पर का घच्चा,
 लच्छन ।
 जजल—(सं. पुं.) पेट, कुक्षि, एक देश का
 नाम, शरीर, उदर का एक रोग; (वि.)
 बृद्ध, बूढ़ा, कठिन ।
 जजलगिनी—(हिं. स्त्री.) अन्न को पचाने
 की पेट में की अग्नि या गरमी ।
 जजलगमय—(सं. पुं.) अतिसार, जलोदर रोग ।
 जजल—(सं. पुं.) वैदिक काल का एक
 जलपात्र ।
 जजल—(हिं. वि.) जेठा, वय में बड़ा ।
 जजल—(सं. वि.) अचेतन, जिसमें चेतना न
 हो, स्तब्ध, चेष्टाहीन, मूर्ख, मन्दबुद्धि,
 जिसके चित्त में मोह हो, अनजान, मूक,
 गूंगा, बहुरा, सरदी से ठिठुरा हुआ; (हिं.
 स्त्री.) जल, पानी, कारण, हेतु, आधार,
 वृक्ष का वह भाग जो भूमि के भीतर
 रहता है, नींव; (मुहा.)—उखाड़ना या
 खोदना—समूल नाश करना; —जमना—
 स्थायी होना; —पकड़ना—जमना;
 —क्रिया—(स्त्री.) दीर्घसूत्रता; —ता—
 (स्त्री.) अचेतन अवस्था, मूर्खता, अच-
 लता, स्तब्धता, चित्त के विवेक-शून्य
 होने की अवस्था में उत्पन्न एकसंचारी
 भाव; —ताई—(हि. स्त्री.) देखें 'जड़ता';
 —त्व—(पुं.) अचेतन स्थिति, स्वयं हिल-
 डोल न सकने की स्थिति, गति का अभाव
 जजलना—(हि. क्रि.स.) झँठाना या पच्ची करन
 किसी पदार्थ से ठाँकना, किसी के विरुद्ध
 कुछ कहना ।
 जजलभरत—(सं. पुं.) अंगिरस गोत्र के एक
 ब्राह्मण जो जड़वत् रहते थे ।
 जजलवाना—(हिं. क्रि. स.) जड़ने का काम
 दूसरे से कराना ।
 जजली—(हि. स्त्री.) धान का छोटा पाँधा ।
 जजली—(हिं. स्त्री.) जड़ने का काम,
 पच्चीकारी ।
 जजली—(हिं. वि.) जिग पर रत्न जड़े हों,
 पच्चीकारी किया हुआ ।
 जजल—(हिं. स्त्री.) जड़ने का काम, जजली
 जजलना—(हिं. क्रि.अ.म.) जड़ने का काम
 दूसरे से कराना, टेंड खाना, शीत लगाना ।

जगद्व- (हि. पूं.) जगने का काम ।
 जगद्व- (हि. स्त्री.) देखें 'जगद्व' ।
 जगद्वर- (हि. पूं.) जगड़े में पहिने के कपड़े ।
 जगद्वर- (हि. पूं.) देखें 'जगद्वर' ।
 जगद्वर- (हि. वि.) जगड़ा हुआ, जिसमें रत्न लगे हों ।
 जगद्वर- (सं. स्त्री.) अज्ञान, जड़त्व ।
 जगद्वर- (हि. पूं.) आभूषणों में नगीने जड़नेवाला ।
 जगदी- (हि. स्त्री.) ओषधि की जड़ जो औषधों में प्रयोग की जाती है; -द्वी- (स्त्री.) वनीषधि ।
 जगदीभूत- (सं. वि.) जो बिलकुल जड़वत् ही नमा हो, संज्ञाहीन, अचेत ।
 जगदीला- (हि. वि.) जड़दार, जिसमें जड़ हो ।
 जगदी- (हि. पूं.) अंगूठे में पहिने का चाँदी का छल्ला ।
 जगदी- (हि. स्त्री.) वह ज्वर जिसके आरंभ में जाड़ा लगता है, जड़ी ।
 जगदी- (हि. क्र. अ.) जड़ हो जाना, हठ करना ।
 जग- (हि. वि.) जिस मात्रा का, जितना ।
 जग- (हि. पूं.) देखें 'यत्' ।
 जगती- (हि. पूं.) यत्न करनेवाला, चतुर, चानाक ।
 जगलाना, जगताना- (हि. क्रि. स.) पहिले से गुनना देना, बतलाना ।
 जगति, जगती- (हि. पूं.) यति, संन्यासी ।
 जगु- (सं. पूं.) गौद, लाह, शिलाजीत ।
 जगु- (सं. पूं.) हींग, लाधा, लाह, गरीर पर का घट्टा या चिह्न, लक्षण ।
 जगु- (सं. स्त्री.) पपंटी नामक लता, चमगादड़ ।
 जगु- (सं. पूं.) जल्दी से जल जानेवाला घास-फूस का बना हुआ घर ।
 जगु- (सं. पूं.) गतरंज का मोहरा, गोबर की गोटी ।
 जगु- (सं. पूं.) एक प्रकार का यान ।
 जगु- (सं. पूं.) गहू का बना हुआ रंग ।
 जगु- (हि. स्त्री.) देखें 'जगु' ।
 जगु- (हि. वि.) जितना ।
 जगु- (हि. पूं.) अनेक जीवों का झुंड, मनु, बनें ।
 जगु- (सं. पूं.) कंधा और बांह का जोड़, रंग ।
 जगु- (हि. अ.) यथा, जिन प्रकार से; (पुं.) मनु, मंजरी ।
 जगु- (हि. स्त्री.) यथा, जय कनी, यति, सार ।

जदपि- (हि. अव्य.) यद्यपि ।
 जद्वद- (हि. पूं.) देख 'जद्वद्व' ।
 जद्वर, जद्वार- (अ. पूं.) निर्विषी, निर्विषी ।
 जद्वरपति, जद्वरपाल- (हि. पूं.) यद्वरपति, श्रीकृष्ण ।
 जद्वर- (हि. पूं.) मथुरा ।
 जद्वर- (हि. पूं.) देखें 'यद्वर' ।
 जद्वर- (हि. पूं.) यद्वरपति, श्रीकृष्ण ।
 जद्वर- (हि. पूं.) यद्वरपति, श्रीकृष्ण ।
 जद्वर- (हि. अव्य.) यद्यपि ।
 जद्वद्व- (हि. पूं.) न कहने योग्य बात, दुर्वचन ।
 जनगम- (हि. पूं.) चांडाल ।
 जन- (सं. पूं.) लोक, लोग, समूह, समुदाय, प्रजा, अनुयायी, गँवार, दास, अनुचर, ऊपर के सात लोकों में से पाँचवाँ लोक ।
 जनक- (सं. पूं.) जन्मदाता, पिता, वाप, सीता के पिता का नाम, संवरासुर के पुत्र का नाम; -ता- (स्त्री.) उत्पन्न करने की शक्ति; -नंदिनी- (स्त्री.) जानकी, सीता; -पुर- (पुं.) मिथिला की प्राचीन राजधानी ।
 जन-कल्याण- (सं. पूं.) लोगों की भलाई, परोपकार ।
 जनकौर- (हि. पूं.) जनक का स्थान, जनक नगर, राजा जनक का वंश ।
 जनखा- (हि. पूं.) हिजड़ा, स्त्रीण ।
 जनचक्षु- (सं. पूं.) नूर्य ।
 जनचर्चा- (सं. स्त्री.) जनप्रवाद, लोक-प्रवाद ।
 जन-जागरण- (सं. पूं.) लोगों में राज-नतिक अधिकारों के प्रति लिप्सा ।
 जनता- (सं. स्त्री.) जनसमूह, सर्वसाधारण लोग ।
 जनदेव- (सं. पूं.) नरपति, राजा ।
 जनधा- (सं. पूं.) अग्नि, आग ।
 जनन- (सं. पूं.) उत्पत्ति, जन्म, आविर्भाव, तंत्र के अनुसार मंत्रों का प्रथम मंस्तार, कुल, वंश, पिता, श्वर ।
 जनता- (हि. क्रि. स.) प्रगव करना, सन्तान उत्पन्न करना ।
 जननाशोच- (सं. पूं.) जन्म होने पर अर्गाचि, नूतक, अर्गोन ।
 जननी- (सं. स्त्री.) उत्पन्न करनेवाली, माता, जूही का बूध, मज्जीठ, कुडनी, जटाभागी, दया, कृपा, चमगादड़ ।
 जननेत्रिय- (सं. स्त्री.) भग, योनि ।
 जनपद- (सं. पूं.) देहा, देहाभागी, प्रजा ।
 जनपद कल्याणी- (हि. स्त्री.) देखा ।
 जनपाल, जनपालक- (सं. पूं.) मनुष्यों का

पालन-पोषण करनेवाला ।
 जनप्रवाद- (सं. पूं.) लोकनिन्दा, लोक-प्रवाद, किंवदन्ती, जनश्रुति ।
 जनप्रिय- (सं. वि.) सर्वप्रिय, सब का प्यारा ।
 जनप्रियता- (सं. स्त्री.) सर्वप्रियता ।
 जन्म- (हि. पूं.) उत्पत्ति, जन्म, आयु जीवन; (मुहा.) -गँवाना- व्यर्थ समय नष्ट करना; -विगड़ना- धर्म नष्ट होना; -घूँटी- (स्त्री.) वह घूँटी जो बच्चों को जन्म-काल से दो-तीन वर्ष तक पिलाई जाती है; -दिन- (पुं.) उत्पत्ति का दिन, जन्मदिन; -संघाती- (पुं.) जन्म से साथ देनेवाला, बहुत दिनों से साथ रहनेवाला, जिसका साथ जन्म भर रहे ।
 जन्मना- (हि. क्रि. अ.) उत्पन्न होना, जन्म लेना ।
 जन्माना- (हि. क्रि. स.) प्रसव करना ।
 जन्मारो- (हि. पूं.) जन्म ।
 जन्मेजय- (सं. पूं.) देखें 'जन्मेजय' ।
 जनयिता- (सं. पूं.) जन्म देनेवाला, पिता, वाप ।
 जनयित्री- (सं. स्त्री.) जन्म देनेवाली, माता ।
 जनरव- (सं. पूं.) जनश्रुति, लोकनिन्दा, किंवदन्ती, झुमि, कोलाहल ।
 जनवल्लभ- (सं. पूं.) जनप्रिय, लोकप्रिय ।
 जनवाई- (हि. स्त्री.) देखें 'जनाई' ।
 जनवाद- (हि. पूं.) देखें 'जनरव' ।
 जनवाना- (हि. क्रि. स.) प्रसव कराना, सन्तति उत्पन्न कराना, समाचार बिल-वाना, किसी के द्वारा सूचित कराना ।
 जनवास- (सं. पूं.) लोगों के ठहरने का स्थान, बरातियों के ठहरने का घर, सभा, समाज ।
 जनवासा- (हि. पूं.) देखें 'जनवास' ।
 जनश्रुत- (सं. वि.) विख्यात, प्रसिद्ध ।
 जनश्रुति- (सं. स्त्री.) किंवदन्ती ।
 जन-साधारण- (सं. पूं.) जनता, सभी लोग ।
 जनस्थान- (सं. पूं.) दण्डकारण्य, दण्डकवन ।
 जनसंख्या- (सं. स्त्री.) नगर, देश आदि के निवासियों की गणना, आवादी ।
 जनहरण- (सं.) दंडकवृत्त का एक भेद ।
 जनांत- (सं. वि. पूं.) जिसकी सीमा निश्चित हो, यम .मनुष्यों के रहने का स्थान ।
 जनांतिक- (सं. पूं.) संकेत द्वारा चार्नालाप ।
 जना- (हि. स्त्री.) उत्पत्ति; (वि.) उत्पन्न किया हुआ ।
 जनाई- (हि. स्त्री.) जनानेवाली दाई, पैदा कराई ।
 जनाउ- (हि. पूं.) देखें 'जनाय' ।

जनाचार—(सं. पुं.) देश या समाज में प्रचलित रीति, लोकाचार ।
 जनाधिनाय—(सं. पुं.) ईश्वर, राजा ।
 जनाना—(हिं. क्रि. स.) जताना, मालूम कराना, उत्पन्न कराना, (घाईका) प्रजनन का काम कराना; (फा.वि.,पुं.) स्त्री-जैसा, डरपोक, हिजड़ा ।
 जनानापन—(हिं. पुं.) स्त्री-जैसा स्वभाव, हिजड़ापन, नामर्दी ।
 जनानी—(हिं.वि.) स्त्री का,स्त्री से संबंधित ।
 जनाव—(सं.पुं.) सम्मान-सूचक संबोधन, श्री, श्रीमान् आदि ।
 जनार्दन—(सं.पुं.) विष्णु; (वि.) दुखदायी ।
 जनाव—(हिं.पुं.) सूचना ।
 जनावर—(हिं.पुं.) देखें 'जानवर' ।
 जनाशन—(सं.पुं.) मनुष्य-भक्षक, भेड़िया ।
 जनाश्रय—(सं.पुं.) यात्रियों के ठहरने का स्थान, धर्मशाला ।
 जनि—(सं. स्त्री.) उत्पत्ति, जन्म, माता, स्त्री, पुत्रवधू, पत्नी, भार्या, जन्मभूमि; (अव्य.) नहीं, मत ।
 जनिका—(सं. स्त्री.) देखें 'जनि' ।
 जनित—(सं. वि.) उत्पन्न, जनमा हुआ, उत्पन्न किया हुआ ।
 जनिता—(हिं.पुं.) उत्पन्न करनेवाला,पिता ।
 जनित्र—(सं.पुं.) जन्मस्थान, जन्म-भूमि ।
 जनित्री—(सं. स्त्री.) उत्पन्न करनेवाली, माता ।
 जनियाँ—(हिं. स्त्री.) प्रियतमा, प्राण-प्यारी, जानी ।
 जनो—(सं.स्त्री.) उत्पन्न करनेवाली, माता, स्त्री, अनुचरी, पुत्री, कन्या, दासी, वधू ।
 जनु—(हिं. अव्य.) मानो; (सं. स्त्री.) जन्म, उत्पत्ति ।
 जनुन—(अ. पुं.) पागलपन, उन्माद ।
 जनुनी—(अ. वि.) पागल ।
 जनन्द्र—(सं. पुं.) भूपति, राजा ।
 जनेऊ—(हिं. पुं.) ब्रह्मपुत्र, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत संस्कार ।
 जनेत—(हिं. स्त्री.) वरयात्रा, बारात ।
 जनेता—(हिं. पुं.) पिता, बाप ।
 जनेरा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बाजरा जिसके पीछे बहुत लम्बे होते हैं, मक्का ।
 जनेव—(हिं. पुं.) देखें 'जनेऊ' ।
 जनेश—(सं. पुं.) भूपति, नरेश, राजा ।
 जनेटा—(सं. स्त्री.) हल्दी, पपटी, पपरी ।
 जनैया—(हिं.वि.) जाननेवाला, जानकार ।
 जनो—(हिं.पुं.) जनेऊ; (अव्य.) मानो ।
 जन्म—(सं.पुं.) उत्पत्ति, उद्भव, जीवन, आविर्भाव; (क्रि. प्र.)-लेना-उत्पन्न

होना; -काल—(पुं.) उत्पन्न होने का समय; -कील—(पुं.) विष्णु; -कुंडली—(स्त्री.) एक प्रकार का चक्र जिससे किसी के जन्म के समय में ग्रहों की स्थिति का पता लगता है; -क्षेत्र—(पुं.) जन्म-भूमि, जन्म-स्थान; -ग्रहण—(पुं.) उत्पत्ति; -ज्येष्ठ—(वि.) प्रथम-जात, जो पहले उत्पन्न हुआ हो; -तिथि—(स्त्री.) जन्म-दिन, वह तिथि जिसमें किसी का जन्म हुआ हो; -द—(वि.) जन्म देनेवाला,पिता; -दिन—(पुं.) जन्म का दिन, बर्षगांठ; -नक्षत्र—(पुं.) जिस नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ हो; -पति—(पुं.) जन्म-राशि के अधिपति; -पत्र—(पुं.) किसी वस्तु के आदि से अन्त तक का विवरण, जीवन-चरित्र, जन्मपत्री; -पत्रिका, -पत्री—(स्त्री.) वह पत्र जिसमें किसी की उत्पत्ति के समय के ग्रहों की स्थिति, दशा, अन्तर्दशा आदि दिये हों; -भाज—(पुं.) प्राणी, जीव; -भूमि—(स्त्री.) वह देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, जन्मस्थान; -राशि—(पुं.) वह राशि जिसमें किसी का जन्म हुआ हो; -रोगी—(पुं.) वह जो जन्मकाल से ही रोगी हो; -त्रमुखा—(स्त्री.) जन्मस्थान, जन्मभूमि; -विधवा—(स्त्री.) वह स्त्री जिसका पति उसके वचपन में ही मर गया हो; -शय्या—(स्त्री.) वह चारपाई जिस पर किसी का जन्म हुआ हो; -स्थान—(पुं.) जन्मभूमि, माता का गर्भ, कुंडली में वह स्थान जिसमें जन्म-समय के ग्रह रहते हैं ।
 जन्मांतर—(सं.पुं.) अन्य जन्म, लोकान्तर ।
 जन्मांव—(सं. वि.) जन्म का अन्वा ।
 जन्मा—(हिं. वि.) जन्म लेनेवाला, उत्पन्न ।
 जन्माधिप—(सं. पुं.) जन्म-लग्न का स्वामी, शिव ।
 जन्माशौच—(सं.पुं.) जन्मसंबंधी अशौच ।
 जन्माष्टमी—(सं. स्त्री.) श्रीकृष्ण के जन्म की अष्टमी तिथि ।
 जन्मास्पद—(सं. पुं.) जन्मस्थान, जन्म-भूमि ।
 जन्मैजय—(हिं. पुं.) राजा परीक्षित के पुत्र का नाम जिन्होंने सर्वयज्ञ किया था, जनमेजय, द्विष्णु ।
 जन्मेश—(सं.पुं.) जन्म राशि का स्वामी ।
 जन्मोत्सव—(सं. पुं.) किसी के जन्म का स्मारक उत्सव ।
 जन्व—(सं. पुं.) हाट, बाजार, निन्दा,

संग्राम, युद्ध, जनक, पिता, शिव, महादेव, शरीर, किंवदन्ती, नव-विवा-हितों के भाईबंधु या मित्र, सामान्य मनुष्य, वराती लोग, वर का सखा; (वि.) उत्पादक, जन्म देनेवाला, जातीय, राष्ट्रीय, जन-संबंधी, मनुष्यों का हितकर, जो उत्पन्न हुआ हो ।
 जन्वा—(सं. स्त्री.) प्रीति, प्रेम, वधू की सहेली ।
 जन्वु—(सं. पुं.) अग्नि, ब्रह्मा, प्राणी, जन्म ।
 जप—(सं. पुं.) पाठ, अध्ययन, मन्त्र आदि का वारंवार उच्चारण या आवृत्ति, मन्त्र का संख्यापूर्वक पाठ ।
 जपजी—(हिं. पुं.) सिद्धों का एक पवित्र धर्म-ग्रन्थ ।
 जपतप—(हिं. पुं.) पूजा-पाठ ।
 जपन—(सं. पुं.) जप करने का काम ।
 जपना—(हिं. क्रि. स.) किसी वाक्य या वाक्य-खंड को धीरे-धीरे देरतक दोहराना, किसी मन्त्र का संख्यानुसार धीरे-धीरे वारंवार उच्चारण करना, खा जाना, जल्दी-जल्दी निगल जाना ।
 जपनी—(हिं. स्त्री.) जपने की माला, गोमुखी ।
 जपनीय—(सं. वि.) जप करने योग्य ।
 जपपरायण—(सं. वि.) जप करने में आसक्त ।
 जपमाला—(सं. स्त्री.) जप के निमित्त व्यवहार होनेवाली माला ।
 जपा—(सं.स्त्री.) अड़हल का वृद्ध या पुष्प ।
 जपिया, जपी—(हिं, सं.पुं.) जप करनेवाला ।
 जप्त—(हिं.वि.) राज्य द्वारा अग्रहरण, जप्त ।
 जप्ती—(हिं. स्त्री.) देखें 'जप्ती' ।
 जप्त्र—(सं. वि.) जपनीय, जपने योग्य ।
 जव—(हिं.अव्य.) जिस समय, जिस वस्तु ।
 जवड़ा—(हिं. पुं.) कल्ला, गाल के नीतर का भाग ।
 जवर—(फा. वि.) अधिक बलवान या मजबूत ।
 जवरदस्त—(फा. वि.) बलवान, प्रबल ।
 जवरदस्ती—(फा. स्त्री.) बल-प्रयोग, धींगा-धींगी ।
 जवरन—(फा. अव्य.) बल प्रयोग करके ।
 जवरा—(हिं.वि.) शक्तिमान, बली; (पुं.) एक प्रकार का अन्न रखने का बड़ा पात्र; (अं. जरा,) एक प्रकार का घोड़े के आकार का पशु जिसके शरीर पर काली लंदी वारियाँ होती हैं ।
 जवान—(फा. स्त्री.) जीम, रमना, भाया, बोगी, दात; (मुहा.)-तौचना-तुरी

या अश्लील बातों के व्यवहार के कारण कठोर दंड देना; -खुलना-वील निकलना,-खोलना-कुछ बोलना; तेजीसेबोलना; -चलना,-चलाना-तेजी से बोलना; -पकड़ना-अपनी बात कहने से किसी को रोकना; -पर लगास न होना-विना समझे-झूठे जो चाहे सो कहना; -पर लाना-कहना, बयान करना; -पर होना-सदा याद रहना; -पलटना-बात कहकर मुकर जाना; -सँभालना-खूब सँभलकर बातें कहना; -हारना-बात हारना, बचनबद्ध होना ।

जवानी-(फा. वि.) जवान से संबद्ध, मौखिक, अलिखित; -जमा-खर्च-(पुं.) वह बात जो कही जाय पर की न जाय । जन्त-(फा. वि.) राज्य द्वारा किसी संपत्ति का स्वायत्तीकरण ।

जन्ती-(फा. स्त्री.) राज्य द्वारा किसी संपत्ति का राज्यसात्करण ।

जवाला-(सं. स्त्री.) सत्यकाम जावाल ऋषि की माता का नाम ।

जभन-(सं. पुं.) स्त्री-प्रसंग, मैथुन ।

जम-(हिं. पुं.) देखें 'यम' ।

जमक-(हिं. पुं.) देखें 'यमक' ।

जमकात, जमकातर-(हिं. पुं.) पानी का भँवर; (स्त्री.) यमराज का छुरा ।

जमघंट-(हिं. पुं.) देखें 'यमघंट' ।

जमघट-(हिं. पुं.) मनुष्यों की भीड़भाड़, जमावड़ा ।

जमज-(हिं. वि.) देखें 'यमज, जुड़वाँ' ।

जमडाड़-(हिं. स्त्री.) कटारी की तरह का एक अस्त्र ।

जमदग्नि-(सं. पुं.) एक वैदिक ऋषि का नाम ।

जमदिशा-(हिं. स्त्री.) दक्षिण दिशा ।

जमघर-(हिं. पुं.) देखें 'जमडाड़' ।

जमन-(सं. पुं.) भोजन, खाद्य पदार्थ; (हिं. पुं.) देखें 'यवन' ।

जमाना-(हिं.क्रि.अ.) किसी तरल पदार्थ का गाढ़ा होना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में दृढ़तापूर्वक बैठ जाना, एकत्र होना, अधिक चोट पड़ना, कोई काम करने में हाथ बैठना, स्थिर होना, निश्चल होना, संगीत, नाटक आदि जलसों का यथेष्ट रोचक होना; किसी काम का अच्छी तरह चलने योग्य होना, उत्पन्न होना, उगना ।

जमनिका-(हिं. स्त्री.) जवनिका, परदा ।

जमनीता-(हिं. पुं.) प्रतिगु के बदले में दिया जानेवाला पान ।

जमवार-(हिं. पुं.) यमका द्वार ।

जमराज-(हिं. पुं.) देखें 'यमराज' ।

जमवट-(हिं. स्त्री.) लकड़ी का गोल चक्कर जो कुएँ की पेंदी में रखकर इस पर इंटों की जोड़ई की जाती है ।

जमा-(अ.स्त्री.) समूह, जमात, पूंजी, धन, हिसाब-बहीका वह मद या भाग जिसमें आमदनी लिखी जाती है; -खर्च-(स्त्री.) आमदनी और खर्च; -दार-(पुं.) सिपाहियों, भंगियों आदि का मुखिया; -पूँजी-(स्त्री.) जो कुछ धन किसी के पास बचा हुआ हो; (मुहा.) -खर्च करना-किसी रकम को जमा में लिखकर फिर खर्च में लिखना ।

जमाई-(हिं. पुं.) जामाता, दामाद, जेवाई; (स्त्री.) जमने की त्रिया, जमाने का पारिश्रमिक ।

जमाजथा-(हिं. स्त्री.) धन, सम्पत्ति ।

जमानत-(अ. स्त्री.) किसी के द्वारा कोई काम कराने, रुपए जमा करने, कचहरी में उपस्थित होने आदि के विषय में कानूनी जिम्मेदारी; अदालत के विश्वास के लिए एतदर्थ जमा की गई रकम, वह व्यक्ति जो जमानत दे; -नामा-(पुं.) जमानत का कानूनी लेख्यपत्र ।

जमानती-(अ. वि.) जमानत से संबद्ध, जमानत के योग्य ।

जमाना-(अ. पुं.) काल, समय, युग, अवधि, बहुत समय; (मुहा.) -उलटना-समय का एकवारगी बदल जाना; -बदलना या पलटना-समय का परिवर्तन होना ।

जमाना-(हिं.क्रि.सं.) किसी तरल पदार्थ को गाढ़ा करना, एक पदार्थ को दूसरे में दृढ़तापूर्वक बैठाना, प्रहार करना, हाथ से होनेवाले काम का अभ्यास करना, उत्पन्न करना, उपजाना ।

जमामार-(हिं. वि.) अनुचित रूप से दूसरे का धन दवा लेनेवाला ।

जमालगोटा-(हिं. पुं.) एक पीछे का फल जो अत्यन्त रेचक औषध है ।

जमाव-(हिं. पुं.) जमने या जमाने का भाव ।

जमावट-(हिं. स्त्री.) जमने का भाव ।

जमावड़ा-(हिं.पुं.) मनुष्यों की भीड़, जत्था ।

जमीकंद-(फा. पुं.) सूरन, ओल ।

जमीदार-(हिं. पुं.) भू-स्वामी ।

जमीदारी-(हिं. स्त्री.) भू-स्वामित्व ।

जनीन-(फा. स्त्री.) पृथ्वी, धरती, भूमि, स्थल-भाग, खेत, चित्रकारी, कशीदे

आदि में कागज या वस्त्र आदि की सतह; (मुहा.)-आसमान का फूक-वहुत अधिक अंतर; -का पाँव तले से खिसक जाना-भय आदि के कारण खड़ा रहने में असमर्थ होना; -पर पाँव न पड़ना-वहुत इतराना या गर्व होना; -में गड़ जाना-वहुत लज्जित होना ।

जमुकना-(हिं.क्रि.अ.) अति समीप होना ।

जमुना-(हिं. स्त्री.) देखें 'यमुना' ।

जमुनियाँ-(हिं. वि.) जामुन के रंग का, जामुनी ।

जमुहाना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'जँमाना' ।

जमोग-(हिं.पुं.) स्वीकार करने की क्रिया ।

जमोगना-(हिं.क्रि.सं.) हिसाब-किताब की जाँच कराना, मार सौपना, सरेखना, जाँच कराना ।

जम्हई-(हिं. स्त्री.) देखें 'जूभा' ।

जम्हाना-(हिं.क्रि.अ.) उवासी लेना ।

जयंती-(सं. स्त्री.) किसी के जन्म-दिन,

वर्ष-गाँठ आदि पर होनेवाला समारोह या उत्सव; स्वर्ण जयंती-(स्त्री.) पचासवें वर्ष होनेवाला समारोह; हीरक जयंती-(स्त्री.) साठवें वर्ष होनेवाला उत्सव ।

जय-(सं.स्त्री.) युद्ध आदि में शत्रु का पराजय, जीत; (पुं.) युधिष्ठिर, विष्णु के एक पार्षद का नाम, विष्णु, एक राजर्षि का नाम, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम, महाभारत, अर्जुन, इन्द्र, सूर्य, अयन, लाभ, इन्द्र का पुत्र जयन्त; (मुहा०) -भनाना-विजय की कामना करना ।

जयक-(सं. वि.) जयकर्त्ता ।

जयकरी-(सं.स्त्री.) चौपाई नामक छन्द ।

जयकोलाहल-(सं.पुं.) जयध्वनि, कोलाहल की ध्वनि ।

जयखाता-(हिं. पुं.) वनियों की आय-व्यय लिखने की बही ।

जयघोष-(सं.पुं.) जीतकीघोषणा, जयध्वनि ।

जयजयवंती-(हिं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।

जयजीव-(सं. पद) अभिवादन का पद ।

जयती-(हिं. स्त्री.) श्री राग के अन्तर्गत एक रागिणी का नाम ।

जयद-(सं. वि.) जयदाता, जीतनेवाला ।

जयदुर्गा-(सं. स्त्री.) दुर्गा की एक मूर्ति का नाम ।

जयदेव-(सं. पुं.) गीत गोविंद आदि के रचयिता प्रसिद्ध संस्कृत कवि ।

जयद्रथ-(सं. पुं.) सिन्धु या सौवीर देश के राजा जो दुर्योधन के बहनीई थे ।

जयध्वज—(सं. पुं.) अवन्ती के राजा का नाम, जयपताका।

जयना—(हिं. क्रि.स.) जीतना।

जयपत्र—(सं. पुं.) वह पत्र जिस पर किसी विवाद के निर्णय के बाद न्यायिक मन्तव्य लिखा जाता है।

जयपाल—(सं. पुं.) विधि, विष्णु, भूपाल।

जयप्रिय—(सं. पुं.) विराट राजा के भाई का नाम, ताल का एक भेद।

जयसंगल—(सं. पुं.) राजा की सवारी का हाथी।

जयमाल (ला)—(हिं., सं. स्त्री.) विजय प्राप्त करने पर विजयी को पहिनाने की माला, वह माला जिसको स्वयंवर के समय कन्या अपने चुने हुए पति के गले में डालती थी।

जययज्ञ—(सं. पुं.) अश्वमेध यज्ञ।

जयलेख—(सं. पुं.) वह पत्र जो हारा हुआ राजा अपने जीतनेवाले को लिख देता है।

जयवाहिनी—(सं. स्त्री.) इन्द्राणी, शची।

जयशब्द—(सं. पुं.) जयध्वनि।

जयथी—(सं. स्त्री.) विजयलक्ष्मी, विजय, एक रागिनी का नाम।

जयस्तंभ—(सं. पुं.) जयसूचक स्तंभ, वह स्तंभ जिसको विजयी राजा किसी देश को जीतने पर विजय के स्मारक रूप में बनवाता था।

जयांजन—(सं. पुं.) स्रोतोजन, सुरमा।

जया—(सं. स्त्री.) दुर्गा, पार्वती, त्रयोदशी, अष्टमी और तृतीया तिथि का नाम, हड़, हरी द्वज, पताका, ध्वजा, भाँग, अड़हुल का फूल, सोलह 'मातृकाओं' में से एक, कैंवाच; (वि. स्त्री.) जय देनेवाली।

जयावती—(सं. स्त्री.) एक संकर रागिनी

जयिष्णु—(सं. वि.) जयशील, जीतनेवाला।

जयी—(हिं. वि.) विजयी, जयशील।

जर—(सं. पुं.) जरा, वृद्धावस्था; (हिं. पुं.) देखें 'ज्वर'।

जरई—(हिं. पुं.) जई, जी का अँखुआ।

जरकटी—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पक्षी।

जरजर—(हिं. वि.) देखें 'जर्जर'।

जरठ—(सं. वि.) कर्कश, कठोर, कड़ा,

वृद्ध, जीर्ण, पुराना; (पुं.) जरा, वृद्धापा।

जरठाई—(हिं. स्त्री.) वृद्धावस्था।

जरण—(सं. पुं.) हिंगु, हींग।

जरणा—(सं. स्त्री.) हींग, जीरा, काला

नमक, वृद्धापा।

जरत—(सं. वि.) वृद्ध, पुराना; (पुं.)

बुढ़ा मनुष्य।

जरतार—(हिं. पुं.) सोने-चाँदी का तार, जरी।

जरतारी—(हिं. स्त्री.) जरी का काम।

जरती—(सं. स्त्री.) बुढ़ी औरत।

जरतुश्त—(पुं.) प्राचीन पारसी धर्म के प्रवर्तक और जंद-अवेस्ता के रचयिता।

जरत्कार—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम।

जरद्गघ—(सं. पुं.) बुढ़ा वैल, वृद्धावस्था, एक गिद्ध का नाम।

जरद्दृष्टि—(सं. वि.) दीर्घजीवी, बूढ़ा।

जरन—(हिं. स्त्री.) देखें 'जलन'।

जरना—(हिं. क्रि.अ.,सं.) देखें 'जलना', 'जड़ना'।

जरनि—(हिं. स्त्री.) दहन।

जरमुँहा—(हिं. वि.) (स्त्री. जरमुँही) अधिक ईर्ष्या करनेवाला, जलनेवाला।

जरर—(अ. पुं.) हानि, क्लेश।

जरांकुश—(हिं. पुं.) एक प्रकार की सुगंधित घास।

जरा—(अ. वि.) अल्प, थोड़ा-सा; -जरा- (अव्य.) थोड़ा-थोड़ा; -सा- (वि.) थोड़ा सा।

जरा—(सं. स्त्री.) वृद्धावस्था, वृद्धापा, वार्धक्य।

जराज—(हिं. वि.) देखें 'जड़ाऊ'।

जरायस्त—(सं. वि.) जराभिभूत, वृद्ध, बुढ़ा।

जरातुर—(सं. वि.) जीर्ण, पुराना, बहुत दिनों का।

जराना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'जलाना'।

जराभीरु—(सं. पुं.) कामदेव; (वि.) वृद्धावस्था से डरनेवाला।

जराय, जराव—(हिं. वि.) जड़ाऊ।

जरायु—(सं. पुं.) गर्भ की झिल्ली जिसमें बच्चा बँधा हुआ उत्पन्न होता है, गर्भाशय, कलल, खेड़ी, भग, योनि, जटायु पक्षी; -ज- (पुं.) वह प्राणी जो खेड़ी में लिपटा हुआ गर्भ से पैदा होता है।

जरासंध—(सं. पुं.) चन्द्रवंशीय राजा बृहद्रथ के पुत्र का नाम।

जरी—(फा. वि.) सुनहरे तारों का बना हुआ; (स्त्री.) ऐसा वस्त्र, ताश; -का काम- कलावस्तु या सलमे-सितारे का काम।

जरीब—(फा. स्त्री.) वह जंजीर जिससे खेत या जमीन की नाप होती है।

जरीमाना—(हिं. पुं.) देखें 'जरमाना'।

जरुर—(अ. अव्य.) अवश्य, निःसंदेह।

जरुरत—(अ. स्त्री.) आवश्यकता।

जरुरी—(फा. वि.) आवश्यक, प्रयोजनीय।

जरीट—(हिं. वि.) देखें 'जड़ाऊ'।

जरजर—(सं. पुं.) शैलज, पत्थर-फूल, इन्द्र की ध्वजा का नाम, शैवाल, सेवार; (वि.) जीर्ण, बहुत पुराना, टूटा-फूटा,

वृद्ध, बुढ़ा; -ता- (स्त्री.) जीर्णता।

जर्जरित—(सं. वि.) खंडित, टूटा-फूटा।

जरहि—(अ. पुं.) चीर-फाड़ के द्वारा धावों की चिकित्सा करनेवाला।

जलधर—(हिं. पुं.) पेट में पानी भर आने का रोग।

जल—(सं. पुं.) पानीय, पानी, अप, उशीर, खस, नेत्रवाला, पूर्वापादा नक्षत्र।

जल-अलि—(सं. पुं.) पानी का भँवरा, जल के तल पर तैरनेवाला एक प्रकार का काला कीड़ा।

जलई—(हिं. स्त्री.) दोनों ओर मुड़ा हुआ काँटा।

जलक—(सं. पुं.) शंख, कपर्दक, कीड़ा।

जलकंदक—(सं. पुं.) शृंगाटक, सिघाड़ा, जलकुंभी।

जलकंद—(सं. पुं.) कदली, केला, सिघाड़ा।

जलकपि—(सं. पुं.) शिशुमार, सूँस नामक जलजंतु।

जलकरंक—(सं. पुं.) नारियल, कमल, शंख, मेघ।

जलकर—(हिं. पुं.) जल से होनेवाली आय पर कर।

जलकल्क—(सं. पुं.) कर्दम, कीचड़, काई।

जलकान्त—(सं. पुं.) जल के अविच्छाता वरुण।

जलकामुक—(सं. पुं.) जलाभिलाषी।

जलकिराट—(सं. पुं.) मगर, घड़ियाल, सूँस।

जलकुंतल—(सं. पुं.) शैवाल, सेवार।

जलकुंभी—(हिं. पुं.) जल के तल पर होनेवाली एक वनस्पति, कुंभी।

जलकुक्कुट—(सं. पुं.) एक जलपक्षी।

जलयुपी—(सं. स्त्री.) कुआँ, तालाव।

जलकेतु—(सं. पुं.) पश्चिम दिशा में उदय होनेवाला एक पुच्छल तारा।

जलकेलि—(सं. स्त्री.) जलक्रीड़ा, जल में तैरने की क्रीड़ा।

जलकेश—(सं. पुं.) शैवाल, सेवार।

जलक्रिया—(सं. स्त्री.) पित्रादि का तर्पण।

जलक्रीड़ा—(सं. स्त्री.) जल में तैरने या नाव खेने की क्रीड़ा, जलविहार।

जलखग—(सं. पुं.) जल के किनारे रहनेवाला पक्षी।

जलखरी—(हिं. स्त्री.) फल, तरकारी

आदि रखने की जालदार थैली।

जलगुल्म—(सं. पुं.) जल का भँवरा, कछुवा,

चाँदूटा तालाव।

जलघड़ी—(हिं. स्त्री.) समय जानने का

एक साधन जिसमें नाँद में भरे जल में

एक महीन छिद्र की कटोरी डाल दी

जाती है जो एक घंटे में जल ने भरकर

दूब जाती है।

जलचर—(सं.पुं.) जल में रहनेवाला जन्तु;
—जीव—(पुं.) मत्स्यजीवी, मछली खाकर
निर्वाह करनेवाला मनुष्य ।
जलचादर—(हिं. स्त्री.) पानी का ऊँचाई
से गिरनेवाला विस्तृत प्रवाह ।
जलचारी—(सं. वि.) देखें 'जलचर' ।
जलज—(सं. वि.) जो पानी में उत्पन्न हो;
(पुं.) कमल, मछली, जलजन्तु, शंख, मोती ।
जलजात—(सं. वि.) देखें 'जलज'; (पुं.)
कमल, पद्म ।
जलडनरुमध्य—(सं. पुं.) दो बड़े समुद्रों
को जोड़नेवाला जल का पतला भाग ।
जलडिब—(सं. पुं.) शंबूक, घोंघा ।
जलतरंग—(सं. पुं.) जल की तरंग, लहर,
घातु की छोटी-बड़ी कटोरियों में जल
भरकर लकड़ी की छड़ी से बजाने का
एक वाजा ।
जलतापी—(सं. पुं.) हिलसा नामक बड़ी
समुद्री मछली ।
जलताल—(सं. पुं.) सलई का वृक्ष ।
जलत्रा—(सं. स्त्री.) छत्र, छाता, जंगम-
कुटी जो एक स्थान से दूसरे स्थान में
हटाई जा सकती है ।
जलत्रास—(सं. पुं.) पागल कुत्ते, सियार
आदि के काटने पर जल देखकर
होनेवाला भय, जलातंक रोग ।
जलयंभ—(हिं. पुं.) देखें 'जलस्तंभ' ।
जलद—(सं. वि.) जल देनेवाला; (पुं.)
मेघ, बादल, कपूर, मोथा, कुचले का
वृक्ष; —काल—(पुं.) वर्षाऋतु, वरसात;
—क्षय—(पुं.) शरदऋतु ।
जलदागम—(सं. पुं.) वर्षाकाल ।
जलदेव—(सं. पुं.) पूर्वाषाढा नक्षत्र, वरुण ।
जलदेवता—(सं. पुं.) वरुण ।
जलधर—(सं. पुं.) मेघ, बादल, मोथा, समुद्र ।
जलधरमाला—(सं. स्त्री.) एक छन्द का
नाम जिसके प्रत्येक चरण में वारह
अक्षर होते हैं ।
जलधरी—(सं. स्त्री.) पत्थर, घातु आदि
का बना हुआ अर्धा जिसमें शिवालिंग
स्थापित किया जाता है ।
जलधारा—(सं. स्त्री.) जल-प्रवाह, पानी
की धारा, जल की धारा के नीचे बैठे
रहने की तपस्या ।
जलधारी—(सं. वि.) जल धारण करने-
वाला; (पुं.) मेघ, बादल ।
जलधि—(सं. पुं.) समुद्र, चार की
संख्या; —गा—(स्त्री.) नदी, लक्ष्मी;
—ज—(पुं.) चन्द्र, चन्द्रमा ।
जलन—(हिं. स्त्री.) बहुत अधिक ईर्ष्या,

जलने का कष्ट या पीड़ा ।
जल-नकुल—(सं. पुं.) ऊदविलाव ।
जलना—(हिं. क्रि. अ.) दग्ध होना, भस्म
होना, बलना, अग्नि के कारण भाप
वनना या कोयला हो जाना, झुलसना,
अधिक डहके कारण चिढ़ना; (मुहा.)
जले पर नमक छिड़कना—दुःखित को
और कष्ट देना; —जली-कटी—(स्त्री.)
मर्मवेधी वार्ता, लगती हुई बात ।
जलनिधि—(सं. पुं.) समुद्र, चार की संख्या ।
जलनिर्गम—(सं. पुं.) पानी का निकास ।
जलपक्षी—(सं. पुं.) जल के आस-पास
रहनेवाली चिड़िया ।
जलपति—(सं. पुं.) समुद्र, पूर्वाषाढा
नक्षत्र ।
जलपथ—(सं. पुं.) जल वहने का मार्ग,
प्रणाली, नाली ।
जलपना—(हिं. क्रि. अ.) डींग मारना;
(स्त्री.) व्यर्थ की बात ।
जलपाटल—(हिं. पुं.) कज्जल, काजल ।
जलपादप—(सं. पुं.) हंस ।
जलपान—(हिं. पुं.) प्रातराश, कलेवा ।
जलपीपल—(हिं. स्त्री.) मत्स्यगंधा नामक
औषधि ।
जलपूर—(सं. पुं.) जल से भरी हुई नदी ।
जलप्रदान—(सं. पुं.) प्रेत, पितर आदि
का तर्पण ।
जलप्रपा—(सं. स्त्री.) पौसरा, प्याऊ ।
जलप्रपात—(सं. पुं.) किसी नदी के स्रोत
का ऊँचे स्थान से नीचे को गिरना ।
जलप्रवाह—(सं. पुं.) पानी का बहाव, नदी
में शव आदि को बहा देने की क्रिया ।
जलप्रांत—(सं. पुं.) नदी, जलाशय आदि
के आसपास का स्थान ।
जलप्राय—(सं. पुं.) अनूप-देश, जिस देश
में जल की अधिकता हो ।
जलप्रिय—(सं. पुं.) चातक पक्षी, पपीहा,
मछली; (वि.) जो जल बहुत चाहता हो ।
जलप्लव—(सं. पुं.) जल-नकुल, ऊदविलाव ।
जलप्लावन—(सं. पुं.) बाढ़, पानी से
किसी स्थान का डूब जाना ।
जलप्लावित—(सं. वि.) जल में मग्न,
बाढ़ में डूबा हुआ ।
जलफल—(सं. पुं.) श्रृंगटक, सिघाड़ा ।
जलबंधु—(सं. पुं.) मत्स्य, मछली ।
जलवालिका—(सं. स्त्री.) विद्युत्, बिजली ।
जलबिंब—(सं. पुं.) पानी का बुलबुला ।
जलविल्व—(सं. पुं.) ककट, केकड़ा ।
जलवे (वे) त—(हिं. पुं.) एक प्रकार का वेत
जो जलाशयों के पास उत्पन्न होता है ।

जलभँवरा—(हिं. वि.) एक प्रकार का
काला कीड़ा जो पानी पर बड़े वेग से
तैरता है, जल-अलि ।
जलभाजन—(सं. पुं.) पानी रखने का पात्र ।
जलभालू—(हिं. पुं.) सील की जाति का
एक प्रकार का जलजन्तु ।
जलभू—(सं. पुं.) मेघ, बादल, कपूर ।
जलभूत्—(सं. पुं.) मेघ, बादल, पानी
रखने का पात्र ।
जलमग्न—(सं. वि.) बाढ़ में डूबा हुआ,
जल-प्लावित ।
जलमय—(सं. वि.) जलपूर्ण, पानी से
भरा हुआ, जलमग्न ।
जलमापकयंत्र—(सं. पुं.) जल की गहराई,
अंश आदि नापन का यन्त्र ।
जलमानुष—(सं. पुं.) परीरु नामक जल-
जन्तु जिसका नाभि के ऊपर का भाग
मनुष्य के समान तथा नीचे का भाग
मछली जैसा कहा गया है ।
जलमार्ग—(सं. पुं.) जलपथ, पानी वहने
की नाली ।
जलमार्जार (सं. पुं.) ऊदविलाव ।
जलमुद्—(सं. पुं.) मेघ, बादल, कपूर ।
जलमूर्ति—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
जलमूर्तिका—(सं. स्त्री.) करका, ओला ।
जलमौद—(सं. पुं.) उशीर, खस ।
जलयंत्र—(सं. पुं.) धारायन्त्र, जलघड़ी ।
जलयाना—(सं. स्त्री.) अभिषेक आदि
शुभ कार्य के लिये जल लाने की यात्रा,
समुद्री यात्रा ।
जलयान—(सं. पुं.) वह यान जो जल में
चलता है, जहाज, नाव आदि ।
जलरंक—(सं. पुं.) वक पक्षी, वगला ।
जलराशि—(सं. पुं.) जलसमूह, समुद्र ।
जलरूह—(सं. पुं.) पद्म, कमल ।
जलरूप—(सं. पुं.) जल का आकार,
मकर राशि ।
जलरता—(सं. स्त्री.) पानी की लहर ।
जलवल्ली—(सं. स्त्री.) श्रृंगटक, सिघाड़ा ।
जलवाद्य—(सं. पुं.) एक वाजा, जल-
तरंग ।
जलवाना—(हिं. क्रि. स.) जलाने का काम
दूसरे से कराना ।
जलवानेर—(सं. पुं.) देखें 'जलवेत' ।
जलदास—(सं. पुं.) उशीर, खस ।
जलवाह—(सं. पुं.) मेघ, बादल; (वि.)
जल ले जानेवाला ।
जलवाहक—(सं. पुं.) पानी ढोनेवाला ।
जल-वाहन—(सं. पुं.) देखें 'जलवाहक' ।
जलविडाल—(सं. पुं.) ऊदविलाव ।

जलवीर्य—(सं.पुं.) भरत के एक पुत्र का नाम।
 जलव्याघ्र—(सं. पुं.) सील के प्रकार का एक जलजन्तु।
 जलव्याल—(सं.पुं.) पानी में का सर्प, डोंडहा।
 जलशयन, जलशायी—(सं. पुं.) विष्णु।
 जलशुचि—(सं. पुं.) शृंगाटक, सिंघाड़ा।
 जलसंध—(सं.पुं.) वृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 जलसंस्कार—(सं.पुं.) स्नान करना, जल-प्रवाह।
 जलसर्पिणी—(सं. स्त्री.) जलौका, जोंक।
 जलसा—(अ. पुं.) सभा, अविवेशन, बैठक, समारोह।
 जलमुत—(हिं. पुं.) कमल, मोती।
 जलसूचि—(सं. पुं.) सूँस, जलौका, जोंक, कछुआ।
 जलसेना—(सं. स्त्री.) समुद्र में जहाजों पर लड़नेवाली सेना।
 जलस्तंभ—(सं.पुं.) एक भौतिक घटना जिसमें जलीय वाष्प स्तंभ के रूप में दिखाई पड़ता है।
 जलस्तंभन—(सं. पुं.) मन्त्रों के बल से जल की गति रोकना।
 जलस्थान—(सं. पुं.) जलाशय।
 जलहर—(हिं. वि.) जलमय, जल से भरा हुआ; (पुं.) जलाशय।
 जलहरण—(सं.पुं.) एक स्थान से दूसरे स्थान को जल ढोना, एक प्रकार का छन्द जिसके चार चरणों में बत्तीस अक्षर होते हैं।
 जलहरी—(हिं. स्त्री.) पत्थर या घातु का बना हुआ शिवलिंग स्थापित करने का अर्घ्य, छिद्र किया हुआ पात्र जिसमें से बूँद-बूँद करके पानी टपकता है, (यह शिवलिंग के ऊपर गरमी में टाँग दिया जाता है।)
 जलहस्ती—(सं. पुं.) सील की जाति का एक बड़ा समुद्री जलजन्तु।
 जलहार, जलहारी—(सं. वि.) जलवाहक, पानी भरनेवाला।
 जलहास—(सं. पुं.) समुद्र का फेन।
 जलांचल—(सं.पुं.) पानी की नहर, सेवार।
 जलांजलि—(सं. स्त्री.) प्रेत-पितर आदि का जल से तर्पण।
 जलाक—(हिं. पुं.) उदर की ज्वाला।
 जलाकर—(सं.पुं.) समुद्र, नदी आदि, जलाशय।
 जलाका—(सं. स्त्री.) जलौका, जोंक।
 जलाकाश—(सं. पुं.) बादल और ताराओं सहित जल में प्रतिबिंबित आकाश।
 जलायु—(सं. पुं.) जल-नकुल, ऊदविलाव।
 जलाजल—(हिं.पुं.) मोट आदि की झालर।
 जलातंज—(सं. पुं.) देखें 'जलनास'।
 जलातन—(हिं. वि.) कोधी, पुरालु, हृष प्रकृति का।

जलात्मिका—(सं. स्त्री.) जोंक, कुआँ।
 जलाद—(हिं. पुं.) घातक, जल्लाद।
 जलाधर—(सं.पुं.) वरुण, पूर्वापादा नक्षत्र।
 जलाधिप—(सं.पुं.) जल के अधिपति वरुण।
 जलाना—(हिं. क्रि. स.) प्रज्वलित करना, दहकाना, भस्म करना, अधिक गरमी से किसी पदार्थ को भाफ या कोयले के रूप में बदलना, गरमी से पीड़ित करना, झुलसाना, किसी के चित्त को सन्तप्त करना, डाह उत्पन्न करना।
 जलापा—(हिं.पुं.) डाह या ईर्ष्या के कारण उत्पन्न होनेवाला दुःख।
 जलापात—(सं. पुं.) देखें 'जलप्रपात'।
 जलायुका—(सं. स्त्री.) जलौका, जोंक।
 जलार्क—(सं.पुं.) पानी में सूर्य का प्रतिबिम्ब।
 जलार्णव—(सं. पुं.) वर्षाकाल, बरसात।
 जलार्थी—(सं. वि.) जलामिलापी, प्यासा।
 जलार्द्र—(सं. वि.) पानी से भीगा हुआ।
 जलालुक—(सं. पुं.) पयकन्द, मसीढ़।
 जलाव—(हिं.पुं.) खमीर उठना, खमीर।
 जलावन—(हिं.पुं.) इन्वन, जलानेकी लकड़ी, किसी वस्तु का जल जानेवाला अंश।
 जलावर्त—(सं. पुं.) पानी का भँवर।
 जलाशय—(सं.पुं.) स्थान जहाँ पानी जमा हो।
 जलामुका, जलुका—(हिं. स्त्री.) जोंक।
 जलाहल—(हिं. वि.) जलमय, पानी से भरा हुआ।
 जलेंद्र—(सं. पुं.) वरुण, महासमुद्र।
 जलेचर—(सं. पुं.) जलचर पक्षी; (वि.) जो पानी में चलता हो।
 जलेज, जलेजात—(सं. पुं.) पय, कमल; (वि.) पानी में होनेवाला।
 जलेतन—(हिं. वि.) जल्दी मृदु होनेवाला, चिड़चिड़ा।
 जलेया—(हिं. पुं.) बड़ी जलेवी।
 जलेवी—(हिं. स्त्री.) इमरती की तरह की एक प्रकार की कुंडलाकार मिठाई, कुंडली, गोल घेरा, लपेट, एक प्रकार की आतिशबाजी।
 जलेरुह—(सं. वि.) जलजात, पानी में होनेवाला।
 जलेवाह—(सं. पुं.) पानी में गोता लगाकर पदार्थों को निकालनेवाला।
 जलेश—(सं.पुं.) वरुण, समुद्र, जलाधिपति।
 जलेशय—(सं. वि., पुं.) जलमें होनेवाला, विष्णु।
 जलेश्वर—(सं. पुं.) वरुण, समुद्र।
 जलौका, जलौकिका—(सं. स्त्री.) जोंक।
 जलोच्छ्वास—(सं. पुं.) पानी की बाढ़।
 जलोदर—(सं. पुं.) एक रोग जिसमें पेट में पानी भर जाता है।
 जलोदरी—(हिं. स्त्री.) मछली, पेट का एक राजरोग।

जलोद्भव—(सं. वि.) जल में उत्पन्न होनेवाला।
 जलौकस, जलौका—(सं. पुं.) जोंक।
 जलद—(अ. वि., अव्य.) शीघ्र, अविलंब, शीघ्रता से।
 जल्दी—(हिं. स्त्री.) शीघ्रता; (अव्य.) शीघ्रता से।
 जल्प—(सं. पुं.) कथन, कहना, प्रलाप, व्यर्थ की बातचीत, बकवाद।
 जल्पक—(सं. पुं.) वाचाल, बकवादी।
 जल्पन—(सं. पुं.) वाचालता, प्रलाप; बकवाद, डींग।
 जल्पन—(हिं. क्रि. अ.) व्यर्थ की बकवाद करना, डींग मारना।
 जल्पित—(सं. वि.) कहा हुआ (डींग के रूप में)।
 जल्लाद—(अ. पुं.) राजाज्ञा से प्राण-दंड-प्राप्त अभियुक्त को फाँसी पर लटकाने-वाला व्यक्ति।
 जब—(सं. पुं.) वेग; (हिं. पुं.) यव, जी।
 जवन—(सं. पुं.) वेग; (वि.) वेगयुक्त; (पुं.) अरब देश, यवन।
 जवनिका—(हिं. स्त्री.) देखें 'यवनिका'।
 जवनी—(हिं. स्त्री.) यवन स्त्री, मुसलमान स्त्री, ग्रीम देश की स्त्री।
 जवा—(सं. स्त्री.) जपा पुष्प, अड़हुल, लहसुन; —कुसुम—(पुं.) अड़हुल का फूल।
 जवाई—(हिं. स्त्री.) जाने की क्रिया, गमन, जाने के लिये दिया हुआ वन।
 जवाइन—(हिं. स्त्री.) देखें 'अजवाइन'।
 जवादार—(हिं. पुं.) यवधार, जाँ से निकाला हुआ धार या नमक।
 जवादि—(हिं. पुं.) एक गुग्गुलु पदार्थ।
 जवाधिक—(सं. वि.) बहुत तीव्र पीड़नेवाला।
 जवान—(फा. वि.) युवा, तरुण, वीर, बलवान; (पुं.) वीर सिपाही या सैनिक।
 जवागी—(फा. स्त्री.) युवावस्था, यौवन; (मुहा.) —चड़ना—यौवनावस्था का आना; —डलना—उम्र का बुढ़ापे की ओर डलना; —दीवानी हुं—जवानी के आधेन में भर्ते म्नावनः होनी है।
 जवापुष्प—(सं. पुं.) देगे 'जवा'।
 जवाय—(फा. पुं.) उत्तम, नवान का हल पत्र का उत्तर; (मुहा.) —तल्ल करना—(किसी बात का) सफाईकरण के लिए माँग करना; —देना—नौकरी में हटा देना; —तल्लनी—(स्त्री.) मण्डीकरण की माँग; —देनी—(स्त्री.) उत्तरमाहित, सफाईकरण; —तल्ल—(पुं.) पत्रोत्तर।
 जवावी—(फा. वि.) जवाय में संबद्ध उत्तर के रूप में दिया गया।

जवार—(हि.स्त्री.) जुआर ।
जवारा—(हि.पुं.) जौ के नये अंकुर, जरई ।
जवारी—(हि.स्त्री.) सितार, सारंगी आदि में का लकड़ी का वह छोटा टुकड़ा जिस पर से तार खूँटी तक जाता है, एक प्रकार की माला ।
जवाल—(हि.पुं.) शंखट, जंजाल ।
जवास, जवासा—(हि.पुं.) एक प्रकार का काँटेदार पौधा जो औषध में प्रयुक्त होता है ।
जवाहर, जवाहिर—(अ.पुं.) रत्न, मणि ।
जवाहिरात—(अ.पुं.) कई प्रकार के रत्न ।
जवैया—(हि.वि.) गमनशील, जानेवाला ।
जस—(हि.पुं.) देखें 'यश'; (अव्य.) जैसा ।
जसद—(सं.पुं.) जस्ता नामक धातु ।
जसवंत—(हि.पुं.) एक प्रकार का फूल ।
जसोदा, जसोवै—(हि.स्त्री.) देखें 'यशोदा' ।
जस्त—(हि.पुं.) देखें 'जस्ता'; -ई—(वि.) जस्ते के रंग का, खाकी ।
जस्ता—(हि.पुं.) खाकी वर्ण की एक भारी धातु ।
जहँ—(हि.अव्य.) जहाँ, जिस स्थान पर ।
जहँड़ (ड़ा) ना—(हि.क्रि.अ.) धोखे में पहुँचाना ।
जहक—(सं.पुं.) काल, समय; (वि.) निर्मोह ।
जहकना—(हि.क्रि.अ.) वहकना, विगड़कर अंड-बंड वकना ।
जहतिया—(हि.पुं.) भूमि का कर उगाहनेवाला ।
जहत्स्वार्था—(हि.स्त्री.) लक्षणा का एक भेद ।
जहवना—(हि.क्रि.अ.) कीचड़ होना, दल-दल होना, शिथिल पड़ना, थक जाना ।
जहदा—(हि.पुं.) कीचड़, दलदल ।
जहना—(हि.क्रि.स.) छोड़ना, त्यागना ।
जहन्नम, जहन्नम—(अ.पुं.) नरक, गहरा अंधेरा कुआँ; (मुहा.)—में जाना—वरवाद होना ।
जहगत—(अ.स्त्री.) कष्ट, तकलीफ ।
जहर—(फा.पुं.) विष, स्वाद में अति कटु, अति अप्रिय (वात); -दार—(वि.) विषैला; -वाद—(पुं.) एक विषला फोड़ा; -मोहरा—(पुं.) एक तरह का पत्थर जिसमें साँप के तथा कुछ अन्य विषों को सोख लेने का गुण होता है; (मुहा.)—उगलना—जलीकटी या लगनेवाली वात कहना; -कर देना—कड़वी कर देना (तरकारी आदि); -का घूँट—अति अप्रिय वात या अनुभव; -का घूँट पीना या पीकर रह जाना—त्रोध को अंदर ही

दवा लेना; -की पुड़िया—बहुत मर्म-घातक स्वभाव का; -होना—(तरकारी आदि) बहुत तिक्त होना ।
जहरी, जहरीला—(हि.वि.) विषैला, जिसमें जहर हो ।
जहल—(हि.स्त्री.) ताप, गरमी ।
जहल्लक्षणा—(सं.पुं.) वह लक्षणा जिसमें पद या वाक्य अपने अर्थ को विलकुल छोड़े हो ।
जहाँ—(हि.अव्य.) जिस स्थान पर, जिस जगह; -का तहाँ—जिस स्थान पर हो उसी स्थान पर; -तहाँ—यहाँ-वहाँ, इधर-उधर, सर्वत्र ।
जहाँ—(फा.पुं.) देखें 'जहान' ।
जहाँगीर—(फा.वि.,पुं.) दुनिया का शासक, विश्व-विजयी, भारत का एक मुगल सम्राट् ।
जहाँगीरी—(फा.वि.) जहाँगीर का, जहाँगीर से संबद्ध ।
जहाँपनाह—(फा.वि.) दुनिया का रक्षक या शासक; (पुं.) वादशाह, सम्राट् ।
जहाज—(अ.पुं.) जलपोत, जलयान; -रानी—(स्त्री.) जहाजों का यातायात ।
जहाजी—(अ.वि.) जहाज का, जहाज से होनेवाला (रोजगार) ।
जहान—(फा.पुं.) संसार, दुनिया, लोक; -आरा—(वि.) दुनिया को सजानेवाला ।
जहिया—(हि.अव्य.) जिस दिन, जिस समय, जब ।
जहाँ—(हि.अव्य.) जिस स्थान पर ।
जह्नु—(सं.पुं.) विष्णु, कुरु के पुत्र का नाम, एक राजषि का नाम, (इन्होंने गंगा को पी लिया था और भगीरथ की बड़ी स्तुति करने पर कान से निकाल दिया था। इसी से गंगा का नाम जाह्नुवी पड़ा); -कन्या, -तनया, -सुता—(स्त्री.) गंगा ।
जाँ—(हि.स्त्री.) माता, मा, देवर की स्त्री, देवरानी; (वि.) उत्पन्न, जात, संभूत; (फा.वि.) उचित ।
जाँग—(हि.पुं.) बौड़ की एक जाति, (स्त्री.) ऊरु, जाँघ ।
जाँगड़ा—(हि.पुं.) बन्दी, भाट, राजाओं का यश गानेवाला ।
जाँगर—(हि.पुं.) पौष्य, देह, हाथ-पैर, बल ।
जाँगरा—(हि.पुं.) भाट, बन्दी, जाँगड़ा ।
जाँगी—(हि.पुं.) नगाड़ा ।
जाँघ—(हि.स्त्री.) ऊरु, जंघा, घुटने और कमर के बीच का अंग ।
जाँघा—(हि.पुं.) हल, कुएँ पर गड़ा हुआ खंभा ।
जाँघिया (हि.पुं.) पैजामे की तरह का

घुटने तक नीचा एक पहिनावा, काछा ।
जाँघिल—(हि.पुं.) वह बल जिसका पिछला पैर चलने में लँगड़ाता है ।
जाँच—(हि.स्त्री.) परीक्षा, परख, खोज; -पड़ताल—(स्त्री.) तहकीकात छानबीन ।
जाँचक—(हि.पुं.) देखें 'याचक' ।
जाँचना—(हि.क्रि.स.) सचाई-सुठाई का पता लगाना, परीक्षा करना, माँगना ।
जाँजरा—(हि.वि.) देखें 'जाजरा', जर्जर ।
जाँत, जाँता—(हि.पुं.) आटा पीसने की चक्की ।
जाँपना—(हि.क्रि.स.) चाँपना ।
जाँव—(हि.पुं.) जामुन ।
जाँववंत, जाँववान्—(सं.पुं.) सुग्रीव का मंत्री एक वानर ।
जाँवव—(सं.पुं.) जामुन का सिरका, जामुन, सुवर्ण ।
जाँववती—(सं.स्त्री.) जाँववान् की कन्या ।
जाँदूनद—(हि.पुं.) धतूरा ।
जाँवत—(हि.वि., अव्य.) जितना ।
जाँवर—(हि.पुं.) प्रस्थान ।
जा—(हि.सर्व.) जिस; (फा.वि.) उचित ।
जाड़—(हि.वि.) देखें 'जा' ।
जाई—(हि.स्त्री.) जाया, पुत्री, बेटा ।
जाउर—(हि.स्त्री, पुं.) खीर ।
जाक—(हि.पुं.) यक्ष ।
जाकड़—(हि.पुं.) दुकानदार से इस शर्त पर लिया माल कि नापसन्द हो तो वापस होगा; -बही—(स्त्री.) जाकड़ दिये हुए माल का व्योरा लिखने का खाता ।
जाखिनी—(हि.स्त्री.) देखें 'यक्षिणी' ।
जाग—(हि.पुं.) यज्ञ; (स्त्री.) स्थान, जागने की क्रिया ।
जागत—(सं.पुं.) जगती छन्द ।
जागता—(हि.वि.) प्रकाशित, प्रत्यक्ष ।
जागती कला, -जीत—(हि.स्त्री.) किसी देवी या देवता का प्रत्यक्ष चमत्कार, दीपका ।
जागना—(हि.क्रि.अ.) निद्रा त्यागना, सोकर उठना, निद्रा-विरत होना, उदित होना, चमक उठना, जलना, प्रसिद्ध होना ।
जागरक—(सं.वि.) निद्रा-रहित, जागता हुआ ।
जागरण—(सं.पुं.) निद्रा-का अभाव, जागना, किसी पर्व के उपलक्ष में रात भर जागते रहना ।
जागरा—(सं.स्त्री.) जागरण ।
जागरित—(सं.पुं.) जागरण, नीद का न धाना, सांख्य और वेदान्त मत से वह अवस्था जिसमें मनुष्य को इन्द्रियों द्वारा सब प्रकार के व्यवहार और कार्यों का

अनुभव होता रहता है ; (वि.) जाग्रत ।
जागरिता—(सं. वि.) जागरणशील, जिसको नींद न आती हो, सचेत ।

जागरी—(सं. वि.) जागरिता ।

जागर्लक—(हिं. वि.) जो जागृत अवस्था में हो ।

जागरूप—(सं. वि.) जो बिलकुल प्रत्यक्ष और स्पष्ट हो (देवता) ।

जागर्ति—(सं. स्त्री.) जागरण, नींद का न आना ।

जागवलिक—(हिं. पुं.) देखें 'याज्ञवल्क्य' ।

जागा—(हिं. स्त्री.) स्थान ।

जागी—(हिं. पुं.) भाट, बन्दी ।

जागीर—(फा. स्त्री.) वह जमीन जो सरकार या राजा अपने किसी राज-कर्मचारी को उसकी महत्वपूर्ण सेवाओं के बदले उसको पुरस्कार-स्वरूप देता है ।

जागीरदार—(फा. पुं.) जागीर का स्वामी, जिसे जागीर मिली हो ।

जागीरदारी—(फा. स्त्री.) जागीरदार का स्वामित्व, संपत्ति, पद आदि ।

जागीरी—(हिं. वि.) जागीर-संबंधी; (स्त्री.) जागीरदारी ।

जागृत—(सं. वि.) जागरण की अवस्था का, जाग्रत, जिसे सब बातों का ज्ञान हो, सचेत ।

जागृति—(सं. स्त्री.) जागरण, जगाने की क्रिया ।

जाग्रत (त्)—(सं. वि.) जागता हुआ, जो जागृति की अवस्था में हो, सचेत, सावधान; -स्वप्न—(पुं.) दिवास्वप्न, कल्पना-चित्रण ।

जागर्ति—(सं. स्त्री.) जागने की अवस्था, जागरण, सचेतता ।

जाचक—(हिं. पुं.) याचक, भिक्षुक, भिखारी; -ता—(स्त्री.) भीख मांगने की क्रिया, भिखमंगी ।

जाचना—(हिं. क्रि. स.) याचना, माँगना ।

जाज मलार—(हिं. पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग ।

जाजरा—(हिं. वि.) जर्जर, टूटा-फूटा ।

जाजलि—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।

जाज्वल्य—(सं. वि.) प्रकाशयुक्त, प्रज्वलित, तेजवान्; -मान—(वि.) दीप्तिमान, तेजस्वी, तेजवान्, प्रज्वलित ।

जाट—(हिं. पुं.) भारत की एक प्रसिद्ध हिन्दू जाति या उसके लोग ।

जाठ—(हिं. पुं.) तालाब आदि के बीच में गड़ा हुआ लकड़ी का मोटा लट्ठा, कोलहू की कूड़ी के बीच में लगा हुआ लट्ठा ।

जाठर—(सं. पुं.) पेट की वह अग्नि जिसकी सहायता से खाया हुआ अन्न पचता है, उदर, पेट, क्षुधा; (वि.) जठर संबंधी, जठर में उत्पन्न ।

जाठरान्नि—(सं. स्त्री.) जठरान्नि ।

जाठरानल—(सं. पुं.) जठरानल ।

जाड़, जाड़ा—(हिं. पुं.) शीतकाल ।

जाइय—(सं. पुं.) जड़ता, मूर्खता, आलस्य ।

जात—(सं. वि.) उत्पन्न, जन्मा हुआ, व्यक्त, प्रकट, प्रशस्त, अच्छा, ग्रहण किया हुआ; (पुं.) वह जिसने जन्म लिया हो, पुत्र, प्राणी, जीव; (हिं. स्त्री.) देखें 'जाति' ।

जातक—(सं. पुं.) वह ग्रंथ जिसमें उत्पन्न हुए बालक के शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन रहता है, वह ग्रंथ जिसमें बृद्धदेव के पूर्व जन्मों का विवरण लिखा है; (पुं.) शिशु, बच्चा, भिक्षुक, भिखारी ।

जातकर्म—(सं. पुं.) हिन्दुओं के सोलह संस्कारों में से चौथा संस्कार ।

जातकाम—(सं. वि.) जिसके मनमें कामेच्छा उत्पन्न हुई हो ।

जातकोप—(सं. वि.) जो क्रुद्ध हो गया हो ।

जातना—(हिं. स्त्री.) देखें 'यातना' ।

जात-पात—(हिं. स्त्री.) जाति, विरादरी ।

जातपुत्रा—(सं. स्त्री.) जिस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ हो ।

जातवल—(सं. वि.) शक्तिमान् ।

जातवेदस्—(सं. पुं.) अग्नि, सूर्य, परमेश्वर ।

जातवेश्म—(सं. पुं.) जिस घर में बालक का जन्म हो, सूतिका-गृह, सौरी ।

जातश्म—(सं. वि.) विश्रान्त, थका हुआ ।

जातस्नेह—(सं. वि.) जो प्रेमासक्त हो ।

जाता—(सं. स्त्री.) कन्या, बेटा, पुत्री; (वि. स्त्री.) उत्पन्न ।

जातापत्य—(सं. वि., पुं.) (वह) जिसके पुत्र हुआ हो ।

जातापत्या—(सं. स्त्री.) प्रसूता स्त्री ।

जाताशु—(सं. वि.) जिसकी आँखों से आँसू टपकता हो ।

जाति—(सं. स्त्री.) जन्म, गोत्र, एक प्रकार का छन्द, मालती, चमेली, चूल्हा, सप्तम स्वर, व्याकरण में किसी शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ, आकृति आदि जिससे पदार्थ का ज्ञान हो; मनुष्यों का धर्म, आकृति आदिकी समानता से किया हुआ विभाग, निवास-स्थान आदि के विचार से मनुष्य-समाज का विभाग, वर्णाश्रम-विभाग ।

जातिकोश—(सं. पुं.) जातीफल, जायफल ।

जातिच्युत—(सं. वि.) जो जाति से अलग कर दिया गया हो ।

जातित्व—(सं. पुं.) जाति का भाव, जातीयता ।

जातिधर्म—(सं. पुं.) ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का धर्म ।

जातिपत्र—(सं. पुं.), जातिपत्री—(सं. स्त्री) जायफल, जावित्री ।

जातिपांति—(हिं. स्त्री.) जाति, वर्ण आदि ।

जातिवैर—(सं. पुं.) स्वाभाविक शत्रुता, सहज-वैर ।

जातिसंकर—(सं. पुं.) वर्णसंकर ।

जातिसंपन्न—(सं. वि.) उच्च कुल का ।

जातिहीन—(सं. वि.) जाति-रहित, नीच जाति का ।

जाती—(सं. स्त्री.) चमेली का फूल, आँवला, मालती, जायफल; (अ. वि.) निज का, निजी, अपना ।

जातीय—(सं. वि.) जातिसंबंधी, जाति-वाला; -ता (स्त्री.) जाति का भाव ।

जालुक—(सं. पुं.) हिंगु, हींग ।

जातुरुपर्णी—(सं. स्त्री.) एक वृक्ष का नाम ।

जातुज—(सं. पुं.) दोहद, गर्भिणीस्त्रीकी इच्छा ।

जातुधान—(सं. पुं.) राक्षस, असुर ।

जात्यध—(सं. वि.) जन्म का अन्वा ।

जात्य—(सं. वि.) कुलीन, श्रेष्ठ, सुन्दर, समकोण; -त्रिभुज—(पुं.) वह त्रिभुज क्षेत्र जिसमें का एक कोण समकोण हो ।

जात्रा—(हिं. स्त्री.) देखें 'यात्रा' ।

जात्री—(हिं. पुं.) यात्री ।

जाथका—(हिं. स्त्री.) राशि ।

जादव—(हिं. पुं.) देखें 'यादव'; -पति—(पुं.) देखें 'यादवपति', श्रीकृष्ण ।

जादसपति—(हिं. पुं.) जल का स्वामी, वरुण ।

जादा—(हिं. वि.) अधिक, ज्यादा ।

जादू—(फा. पुं.) इंद्रजाल, नजरबंदी, टोना, टोटका, दूसरे को मोहित करने की शक्ति, मोहिनी ।

जादूगर—(फा. पुं.) जादू करनेवाला, इंद्रजालिक ।

जादूगरी—(फा. स्त्री.) जादूगर का कौशल, इंद्रजाल ।

जादौ—(हिं. पुं.) देखें 'यादव'; -राय—(पुं.) श्रीकृष्ण ।

जान—(हिं. स्त्री., पुं.) जानने का भाव जानकारी, समझ, ह्याल; विश्वा, अभिज्ञता, परिचय; (वि.) जानने-वाला, विज्ञ; -पहचान—(स्त्री.) परिचय; (पुं.) मान ।

जान—(फा. स्त्री.) जीवन, प्राण, प्राण-वायु, आधारभूत गुण, प्रेरणा, ओज आदि, अति प्यारी वस्तु; (मुहा.) अज्ञान-

संकट के बाद कुछ फुरसत मिलना;
 -का गहक-जान मारने पर उतारू;
 -की पड़ना-अपने प्राण बचाने की
 फिक्र या चिंता होना; -के लाले पड़ना-
 प्राण बचाना मुश्किल होना; -खाना-
 याचना या तकादे से बार-बार परेशान
 करना; -छुड़ाना-पिंड छुड़ाना, जी
 वचाना; (किसी पर) -देना-किसी
 से रुष्ट होकर प्राण-त्याग या आत्म-हत्या
 करना; -पर आ वचना-जान जानें का
 खतरा होना; -पर खेलना-किसी बात
 या प्रण के लिए जान देने को तैयार
 होना; -में जान आना-कुछ राहत
 मिलना; -सूखना-डर से सुन्न हो जाना।
 जानकार-(हि.वि.) जाननेवाला, चतुर, दक्ष।
 जानकारी-(हि. स्त्री.) अभिज्ञता, परि-
 चय, विज्ञता, निपुणता।
 जानकी-(सं. स्त्री.) राजा जनक की पुत्री,
 रामचन्द्र की पत्नी; -जानि-(पुं.)
 श्री रामचन्द्र; -नाथ-(पुं.) श्री रामचन्द्र।
 जानदार-(फा. वि.) सजीव, जीवधारी;
 (पुं.) प्राणी।
 जाननेहार-(हि. वि.) जाननेवाला।
 जानना-(हि.क्रि.स.) ज्ञान प्राप्त करना,
 अभिज्ञ होना, सूचना पाना, परिचित
 होना, अनुमाना करना, पता पाना, मालूम
 करना; (मुह.) जानकर अनजान
 वचना-किसी बात को जानते हुए भी
 अनभिज्ञता दिखलाना; जान-बूझकर-
 जानते या समझते हुए; जाने-अनजाने-
 अभिज्ञता में या न जानने में।
 जानपद-(सं. वि.) जनपद सम्बन्धी,
 देशस्थ, जनपद में रहनेवाला; (पुं.)
 लोक, देश, कर।
 जानपदिक-(सं. वि.) जनपद सम्बन्धी।
 जानपदी-(हि. स्त्री.) वृत्ति, एक अप्सरा
 का नाम।
 जानपना-(हि. पुं.) जानकारी, चतुराई।
 जानपनी-(हि. स्त्री.) चतुराई, बुद्धिमानी।
 जानमनि-(हि. पुं.) ज्ञानियों में श्रेष्ठ,
 बड़ा ज्ञानी पुरुष।
 जानराय-(हि. पुं.) अत्यन्त ज्ञानी पुरुष।
 जानवर-(फा. पुं.) पशु, जंतु।
 जानहार-(हि. वि.) नष्ट होनेवाला।
 जानहु(हुँ)-(हि. अव्य.) मानो।
 जानाहु-(हि.क्रि.अ.) प्रस्थान करना, गमन
 करना, अलग होना, दूर होना, नष्ट होना, खो
 जाना, व्यतीत होना, विगड़ना, मरना, भ्रष्ट
 होना, बढ़ना, हटना, अधिकार से निकल
 जाना, बहना; (क्रि.स.) उत्पन्न करना;

जाने दो-क्षमा करो।
 जानि-(सं. स्त्री.) भार्या, पत्नी।
 जानी-(फा. वि.) जान से संबंध रखने-
 वाला, जान का; (स्त्री.) प्राण-प्यारी;
 -दुश्मन-(पुं.) घातक शत्रु।
 जानु-(सं. पुं.) ऊरुसन्धि, घूटना, जाँघ,
 रान, चन्त्रिका, पैर की चक्की।
 जानुपाणि-(सं. अव्य.) घुटनों और हाथों
 के बल।
 जानो-(हि. अव्य.) मानो, जैसे।
 जाप-(सं. पुं.) मन्त्र की विधिपूर्वक
 आवृत्ति, मन्त्र का जप करना,
 जपने की माला या गोमुखी; -क-
 (वि.) जपसंबंधी, जप करनेवाला।
 जापन-(सं. पुं.) निरसन, परिहार, जप।
 जापा-(हि. पुं.) सूतिकागृह, सौरी।
 जापानी-(हि. वि.) जापान देश का;
 (पुं.) जापान का निवासी; (स्त्री.)
 जापान की भाषा।
 जापी-(सं. वि.) जप करनेवाला।
 जाप्य-(सं. वि.) जपने योग्य।
 जाफरान-(अ. पुं.) केसर।
 जाफरानी-(अ. वि.) केसरिया।
 जावाल-(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम,
 (इनके पुत्र का नाम सत्यकाम था।)
 जाबालि-(सं. पुं.) कश्यप वंश के एक मुनि
 जो राजा दशरथ के गुरु थे।
 जाबिर-(फा. वि.) जुलूम करनेवाला।
 जाब्ता-(अ. पुं.) विधि, कानून; (स्त्री.)
 -दीवानी-(स्त्री.) दीवानी मामलों से
 संबंधित कानून।
 जाम-(हि. पुं.) जामुन, प्रहर, तीन घंटे या साढ़े
 सात घड़ी का काल; (वि.) अवरुद्ध (मार्ग)।
 जामगी-(हि. पुं.) तोप या बन्दूक का पलीता।
 जामदग्न्य-(सं. पुं.) जमदग्नि के पुत्र,
 परशुराम।
 जामन-(हि. पुं.) दूध को जमाने के लिये
 प्रयुक्त होनेवाला थोड़ा-सा दही या अन्य
 खट्टा पदार्थ।
 जामना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'जमना'।
 जामनी-(हि. स्त्री.) देखें 'यावनी'।
 जामल-(सं. पुं.) एक प्रकार का तन्त्र।
 जामवंत-(सं. पुं.) देखें 'जांववान्'।
 जामा-(हि. स्त्री.) दुहिता, कन्या, बेटी;
 (फा. पुं.) कपड़ा, पहनावा, दूल्हे का
 लंबा कुरता; (मुहा.) जामें में फूला न
 समाना-बहुत प्रसन्न होना; जामे से
 बाहर होना-बहुत क्रुद्ध होना।
 जामाता-(हि. पुं.) दामाद, कन्या का पति।
 जामि-(सं. स्त्री.) भगिनी, बहिन, दुहिता,

कन्या, पुत्रवधू, पतीह।
 जामिक-(हि. पुं.) पहरेवा, रक्षक।
 जामित्व-(सं. पुं.) रिश्ता, सम्बन्ध।
 जामिन-(फा. पुं.) जमानत करनेवाला,
 जिम्मा या उत्तरदायित्व लेनेवाला।
 जामिनदार-(फा. पुं.) जमानतदार।
 जामिनी-(हि. स्त्री.) देखें 'यामिनी'।
 जामी-(हि. स्त्री.) भूमि।
 जामुन-(हि. पुं.) जम्बू, एक सदाबहार
 वृक्ष जिसके बर के समान वृंगनी रंग के
 खट-मीठे फल होते हैं।
 जामुनी-(हि. वि.) जामुन के रंग का, वृंगनी।
 जामेय-(सं. पुं.) मानजा, बहिन का बेटा।
 जामेवार-(हि. पुं.) दुशाला जिसमें सर्वत्र
 बेलबूटे कढ़े होते हैं, इसी तरह छपी हुई
 छोट जो दुशाले के समान दीख पड़ती है।
 जायें-(हि. वि.) उचित, उपयुक्त, न्याय्य।
 जायक-(सं. पुं.) पीला चन्दन।
 जायपत्री-(हि. स्त्री.) देखें 'जावत्री'।
 जायका-(अ. पुं.) स्वाद, मजा, रसास्वादन।
 जायकेदार-(अ. वि.) स्वादिष्ट, मजेदार।
 जायज-(अ. वि.) उचित, न्याय्य।
 जायद-(अ. वि.) ज्यादा, अधिक।
 जायदाद-(फा. स्त्री.) संपत्ति, भू-संपत्ति,
 जगह-जमीन।
 जायफर, जायफल-(हि. पुं.) एक सुगं-
 धित गोल फल जो सुपारी के आकार
 का होता है, जातीफल।
 जाया-(सं. स्त्री.) पत्नी, विवाहिता
 स्त्री, ज्योतिष में सातवें लग्न का नाम,
 उपजाति वृत्त का सातवाँ भेद।
 जायाजीव-(सं. पुं.) नट, वेद्यापति;
 (वि.) पत्नी की कमाई खानेवाला।
 जायात्व-(सं. पुं.) पत्नीत्व, स्त्री का धर्म।
 जायी-(सं. वि.) जययुक्त; (पुं.) ध्रुपद
 जाति का एक ताल।
 जार-(सं. पुं.) पराई स्त्री से प्रेम करने-
 वाला पुरुष, उपपति, यार, परस्त्रीगामी;
 (वि.) नाश करनेवाला, मारनेवाला।
 जारक-(सं. वि.) पाचन करनेवाला।
 जारकर्म-(सं. पुं.) व्यभिचार, छिनाला।
 जारज-(सं. पुं.) किसी स्त्री की उसके उप-
 पति से जनमी हुई सन्तान; -योग-(पुं)
 फलित ज्योतिष में कहा हुआ वह योग
 जिससे यह सिद्धान्त निकाला जाता है कि
 बालक अपनी माता के उपपति से उत्पन्न है।
 जारजन्मा, जारजात-(सं. पुं.) उपपति
 से उत्पन्न पुत्र।
 जारण-(सं. पुं.) वातु इत्यादि का मरम
 बनाना, जलाना।

जारणी—(सं. स्त्री.) सफेद जीरा ।
 जारत—(सं. स्त्री.) उपपतित्व ।
 जारना—(हि. क्रि. स.) देखें 'जलाना' ।
 जारा—(हि. पुं.) सोनार की सोना-चाँदी गलाने की मट्टी ।
 जारिणी—(सं. स्त्री.) दुश्चरित्रा स्त्री, पुरचली, छिनाल स्त्री ।
 जारित—(सं. वि.) शूद्र किया हुआ, शोधित ।
 जारी—(अ. वि.) प्रचलित ।
 जालंधर—(सं. पुं.) शतद्रु और चन्द्रभागा नदियों के बीच का देश ।
 जालंधरी विद्या—(हि. स्त्री.) इन्द्रजाल ।
 जालंध्र—(सं. पुं.) झरोखे की जाली ।
 जाल—(सं. पुं.) पशु-पक्षी या मछली पकड़ने के लिये तार, सूत आदि का दूर-दूर पर बना हुआ पट, गवाक्ष, झरोखा, समूह, किसी को फँसाने की युक्ति, दम्भ, घमंड, अहंकार, इन्द्रजाल, कदम्ब वृक्ष, लोहे के तार की बनी हुई जाली, एक प्रकार की तोप, मकड़ी का जाला; (मुहा.)—फँसाना या विछाना—किसी को फँसाने की युक्ति करना; (अ. पुं.) किसी को ठगने के अभिप्राय से बनाया हुआ झूठा लिखित लेख्य-पत्र आदि, झूठी काररवाई ।
 जालक—(सं. पुं.) गवाक्ष, झरोखा ।
 जालकारक—(सं. पुं.) जाल बनानेवाला ।
 जालकिरिच—(हि. स्त्री.) परतला लगी हुई पेटो या पट्टी ।
 जालकीट—(सं. पुं.) मकड़ा, मकड़ी के जाल में फँसा हुआ कीड़ा ।
 जालजीवी—(सं. पुं.) धीवर, मछुआ ।
 जालदार—(हि. वि.) जिसमें जाल के समान बहुत-से छेद हों ।
 जालना—(हि. क्रि. स.) जलाना ।
 जालपाद—(सं. पुं.) हंस, जावालिक ऋषि के एक शिष्य का नाम ।
 जालबंद—(हि. पुं.) एक प्रकार का गलीचा जिसमें जाल की तरह बेल बनी होती है ।
 जालसाज—(अ. पुं.) वह जो दूसरों को ठगने के लिए बनावटी लेख्य-पत्रादि बनावे या और कोई जाल करे; जालिया ।
 जालसाजी—(फ़ा. स्त्री.) जाल करने का काम, फरेब ।
 जाला—(हि. पुं.) मकड़ी का बनाया हुआ जाल, आँख का एक रोग जिसमें पुतली के ऊपर झिल्ली पड़ जाती है, माँड़ा, पानी रखने का मिट्टी का बड़ा पात्र ।
 जालाक्ष—(सं. पुं.) गवाक्ष, झरोखा ।
 जालिक—(सं. पुं.) धीवर, मछुआ, मकड़ी मदारी ।

जालिका—(सं. स्त्री.) कदच, वस्त्र, चिड़ियों को पकड़ने का जाल, मकड़ी ।
 जालिनी—(सं. स्त्री.) तरौई, धिया ।
 जालिम—(अ. वि.) जुल्म करनेवाला, अत्याचारी ।
 जालिया—(हि. वि.) धोखा देनेवाला; (पुं.) जाल से मछली पकड़नेवाला, धीवर ।
 जाली—(अ. वि.) नकली (दस्तावेज, लेख्य आदि) ।
 जाली—(हि. स्त्री.) पत्थर, घातु आदि के 'पट्ट पर बने हुए छोटे-छोटे छिद्र, एक प्रकार का कसीदे का काम, महीन छेदवाला वस्त्र, कच्चे आम की गुठली के ऊपर के रेशे; -दार—(हि. वि.) जिसमें जाली बनी हो ।
 जालीलेट—(हि. पुं.) एक प्रकार का जाली-दार वस्त्र ।
 जाल्म—(सं. वि.) नीच, पामर, मूर्ख ।
 जावक—(सं. पुं.) लाह से बना हुआ लाल रंग, अलत, महावर ।
 जावत—(हि. अव्य.) देखें 'यावत्' ।
 जावन—(हि. पुं.) देखें 'जामन' ।
 जावन्य—(सं. पुं.) द्रुत गति ।
 जावित्री—(हि. स्त्री.) जायफल के ऊपर का छिलका जो सुगन्धित होता है । (यह औषधों में प्रयुक्त होती है) ।
 जावनी—(हि. स्त्री.) देखें 'यक्षिणी' ।
 जासु—(हि. सर्व.) जिसका ।
 जासू—(हि. पुं.) अफीम और पान के पत्ते से बना मादक द्रव्य ।
 जासूस—(हि. पुं.) छिपकर अपराधों का भेद लेनेवाला पुलिस कर्मचारी, खुफिया पुलिस ।
 जासूसी—(हि. स्त्री.) जासूस का काम ।
 जाहक—(सं. पुं.) घोधा, जोक, गिरगिट ।
 जाहिर—(अ. वि.) प्रकट, व्यक्त, खुला हुआ ।
 जाहिरा—(अ. अव्य.) ऊपर से, प्रकट रूप से ।
 जाहिल—(अ. वि.) मूर्ख, जड़, अज्ञान ।
 जाहिली—(अ. स्त्री.) मूर्खता, जड़ता ।
 जाही—(हि. स्त्री.) चमेली की जाति का एक प्रकार का सुगन्धित फूल, एक प्रकार की आतिशवाजी ।
 जाह्नवी—(सं. स्त्री.) जह नूतनया, गंगानदी ।
 जिदगी—(फ़ा. स्त्री.) जीवन, आयु, जीवन-काल ।
 जिदा—(फ़ा. वि.) जीता हुआ, जीवित ।
 जिदाना—(हि. क्रि. स.) जिमाना, भोजन कराना ।
 जित्त—(अ. स्त्री.) वस्तु, रोजगार का माल, गल्ला, असवाव ।
 जित्तवार—(अ. वि.) वर्ग के अनुसार;

(पुं.) पटवारियों की एक बही ।
 जित्तवारी—(अ. स्त्री.) वर्गीकरण ।
 जिआना—(हि. क्रि. स.) देखें 'जिलाना' ।
 जिउ—(हि. पुं.) देखें जीव ।
 जिउका—(हि. स्त्री.) देखें 'जीविका' ।
 जिउकिया—(हि. पुं.) जीविका कमानेवाला, व्यवसायी, रोजगारी, पहाड़ी लोग जो जंगलों से वस्तुएँ लाकर नगरों में बेचते हैं ।
 जिउतिया—(हि. स्त्री.) आदिवन मास की अष्टमी के दिन होनेवाला एक व्रत, जिताष्टमी ।
 जिकिर—(हि. पुं.) देखें 'जिक्र' ।
 जिऊ—(अ. पुं.) चर्चा, प्रसंग, हवाला, संकेत ।
 जिगमिया—(सं. स्त्री.) गमन करने की इच्छा ।
 जिगर—(फ़ा. पुं.) यकृत, कलेजा, सार, साहस ।
 जिगरा—(हि. पुं.) साहस ।
 जिगरी—(फ़ा. वि.) जिगर का, दिली, हार्दिक, घनिष्ट ।
 जिगीषा—(सं. स्त्री.) विजय प्राप्त करने की इच्छा, उद्यम, उद्योग ।
 जिगीषु—(सं. वि.) जो श्रेष्ठता चाहता हो, परिश्रमी, मेहनती ।
 जिघरसा—(सं. स्त्री.) भोजन करने की इच्छा, भूख ।
 जिघांसक—(सं. वि.) हिंसक, हत्यारा ।
 जिघांसी—(सं. वि.) वध करनेवाला ।
 जिघांसु—(सं. वि.) मारनेवाला, जिघांसी ।
 जिच, जिच्च—(हि. स्त्री.) विवशता, शतरंज के खेल में वह स्थिति जब एक पक्ष के खेलाड़ी को कोई मोहरा चलने की जगह नहीं रहती, गतिरोध; (वि.) विवश ।
 जिजीविषा—(सं. स्त्री.) जीने की इच्छा ।
 जिजीविषु—(सं. वि.) जीने की इच्छा करनेवाला ।
 जिज्ञासन—(सं. पुं.) जानने की इच्छा से पूछना, पूछताछ ।
 जिज्ञासमान—(सं. वि.) जिज्ञासु, पूछताछ करनेवाला ।
 जिज्ञासा—(सं. स्त्री.) ज्ञान प्राप्त करने की कामना, जानने की इच्छा, प्रश्न ।
 जिज्ञासित—(सं. वि.) जो पूछा गया हो ।
 जिज्ञासु—(सं. वि.) ज्ञान प्राप्त करने के लिये इच्छुक, जानने की इच्छा रखने वाला, खोजी, मसूधु ।
 जिज्ञास्यमान—(सं. वि.) जो विषय पूछा जाता हो ।
 जिठानी—(हि. स्त्री.) पति के बड़े भाई की स्त्री, जेठानी ।
 जित्—(सं. वि.) जीतनेवाला, जेता ।

संकट के बाद कुछ फुरसत मिलना;
 -का गाहक-जान मारने पर उतारू;
 -की पड़ना-अपने प्राण बचाने की
 फिर या चिंता होना; -के लाले पड़ना-
 प्राण बचाना मुश्किल होना; -खाना-
 याचना या तकादे से बार-बार परेशान
 करना; -छुड़ाना-पिंड छुड़ाना, जी
 बचाना; (किसी पर) -देना-किसी
 से रुष्ट होकर प्राण-त्याग या आत्म-हत्या
 करना; -पर आ बनना-जान जाने का
 खतरा होना; -पर खेलना-किसी बात
 या प्रण के लिए जान देने को तैयार
 होना; -में जान आना-कुछ राहत
 मिलना; -सूखना-डर से सुन्न हो जाना।
जानकार-(हि.वि.) जाननेवाला, चतुर, दक्षा
जानकारी-(हि. स्त्री.) अभिज्ञता, परि-
 चय, विज्ञता, निपुणता।
जानकी-(सं. स्त्री.) राजा जनक की पुत्री,
 रामचन्द्र की पत्नी; -**जानि**-(पुं.)
 श्रीरामचन्द्र; -**नाथ**-(पुं.) श्रीरामचन्द्र।
जानदार-(फा. वि.) सजीव, जीवधारी;
 (पुं.) प्राणी।
जाननहार-(हि. वि.) जाननेवाला।
जानना-(हि.क्रि.स.) ज्ञान प्राप्त करना,
 अभिज्ञ होना, सूचना पाना, परिचित
 होना, अनुमाना करना, पता पाना, मालूम
 करना; (मुह.) जानकर अनजान
 बनना-किसी बात को जानते हुए भी
 अनभिज्ञता दिखलाना; **जान-बूझकर**-
 जानते या समझते हुए; **जाने-अनजाने**-
 अभिज्ञता में या न जानने में।
जानपद-(सं. वि.) जनपद सम्बन्धी,
 देशस्थ, जनपद में रहनेवाला; (पुं.)
 लोक, देश, कर।
जानपदिक-(सं. वि.) जनपद सम्बन्धी।
जानपदी-(हि. स्त्री.) वृत्ति, एक अप्सरा
 का नाम।
जानपना-(हि. पुं.) जानकारी, चतुराई।
जानपनी-(हि. स्त्री.) चतुराई, बुद्धिमानी।
जानमलि-(हि. पुं.) ज्ञानियों में श्रेष्ठ,
 बड़ा ज्ञानी पुरुष।
जानराय-(हि. पुं.) अत्यन्त ज्ञानी पुरुष।
जानवर-(फा. पुं.) पशु, जंतु।
जानहार-(हि. वि.) नष्ट होनेवाला।
जानहु(हुं)-(हि. अव्य.) मानो।
जानाहु-(हि.क्रि.अ.) प्रस्थान करना, गमन
 करना, अलग होना, दूर होना, नष्ट होना, खो
 जाना, व्यतीत होना, विगड़ना, मरना, भ्रष्ट
 होना, बढ़ना, हटना, अधिकार से निकल
 जाना, वहना; (क्रि.स.) उत्पन्न करना;

जाने दो-क्षमा करो।
जानि-(सं. स्त्री.) भार्या, पत्नी।
जानी-(फा. वि.) जान से संबंध रखने-
 वाला, जान का; (स्त्री.) प्राण-प्यारी;
 -**दुश्मन**-(पुं.) घातक शत्रु।
जानु-(सं. पुं.) ऊरुसन्धि, घुटना, जाँघ,
 रान, चत्रिका, पैर की चक्की।
जानुपाणि-(सं. अव्य.) घुटनों और हाथों
 के बल।
जानो-(हि. अव्य.) मानो, जैसे।
जाप-(सं. पुं.) मन्त्र की त्रिधिपूर्वक
 आवृत्ति, मन्त्र का जप करना,
 जपने की माला या गोमुखी; -**क**-
 (वि.) जपसंबंधी, जप करनेवाला।
जापन-(सं. पुं.) निरसन, परिहार, जप।
जापा-(हि. पुं.) सूतिकागृह, सौरी।
जापानी-(हि. वि.) जापान देश का;
 (पुं.) जापान का निवासी; (स्त्री.)
 जापान की भाषा।
जापी-(सं. वि.) जप करनेवाला।
जाप्य-(सं. वि.) जपने योग्य।
जाफरान-(अ. पुं.) केसर।
जाफरानी-(अ. वि.) केसरिया।
जावाल-(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम,
 (इनके पुत्र का नाम सत्यकाम था।)
जावालि-(सं. पुं.) कश्यप वंश के एक मुनि
 जो राजा दशरथ के गुरु थे।
जाद्विर-(फा. वि.) जुलम करनेवाला।
जाव्ता-(अ. पुं.) विधि, कानून; (स्त्री.)
 -**दीवानी**-(स्त्री.) दीवानी मामलों से
 संबंधित कानून।
जाम-(हि. पुं.) जामुन, प्रहर, तीन घंटे या साढ़े
 सात घड़ी का काल; (वि.) अवरुद्ध (मार्ग)।
जामगी-(हि. पुं.) तोप या बन्दूक का पलीता।
जामदन्य-(सं. पुं.) जमदग्नि के पुत्र,
 परशुराम।
जामन-(हि. पुं.) दूध को जमाने के लिये
 प्रयुक्त होनेवाला थोड़ा-सा दही या अन्य
 खट्टा पदार्थ।
जामना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'जमना'।
जाभनी-(हि. स्त्री.) देखें 'यावनी'।
जामल-(सं. पुं.) एक प्रकार का तन्त्र।
जामवंत-(सं. पुं.) देखें 'जाववान्'।
जामा-(हि. स्त्री.) दुहिता, कन्या, बेटा;
 (फा. पुं.) कपड़ा, पहनावा, दूल्हे का
 लवा कुरता; (मुहा.) **जामें में फूला न**
समाना-बहुत प्रसन्न होना; **जामे से**
बाहर होना-बहुत क्रुद्ध होना।
जामाता-(हि. पुं.) दामाद, कन्या का पति।
जामि-(सं. स्त्री.) भगिनी, बहिन, दुहिता,

कन्या, पुत्रवधू, पतीह।
जामिक-(हि. पुं.) पहरेवा, रक्षक।
जामित्व-(सं. पुं.) रिश्ता, सम्बन्ध।
जामिन-(फा. पुं.) जमानत करनेवाला,
 जिम्मा या उत्तरदायित्व लेनेवाला।
जामिनदार-(फा. पुं.) जमानतदार।
जामिनी-(हि. स्त्री.) देखें 'यामिनी'।
जामी-(हि. स्त्री.) भूमि।
जामुन-(हि. पुं.) जम्बू, एक सदावहार
 वृक्ष जिसके बर के समान वैगनी रंग के
 खट-मीठे फल होते हैं।
जामुनी-(हि. वि.) जामुन के रंग का, वैगनी।
जामेय-(सं. पुं.) मानजा, बहिन का बेटा।
जामेवार-(हि. पुं.) दुशाला जिसमें सर्वत्र
 बेलबूटे कढ़े होते हैं, इसी तरह छपी हुई
 छीट जो दुशाले के समान दीख पड़ती है।
जाम्ये-(हि. वि.) उचित, उपयुक्त, न्याय्य।
जायक-(सं. पुं.) पीला चन्दन।
जायपत्री-(हि. स्त्री.) देखें 'जावित्री'।
जायका-(अ. पुं.) स्वाद, मजा, रसास्वाद।
जायकेदार-(अ. वि.) स्वादिष्ट, मजेदार।
जायज-(अ. वि.) उचित, न्याय्य।
जायद-(अ. वि.) ज्यादा, अधिक।
जायदाद-(फा. स्त्री.) संपत्ति, भू-संपत्ति,
 जगह-जमीन।
जायफर, **जायफल**-(हि. पुं.) एक सुगं-
 धित गोल फल जो सुपारी के आकार
 का होता है, जातीफल।
जाया-(सं. स्त्री.) पत्नी, विवाहिता
 स्त्री, ज्योतिष में सातवें लग्न का नाम,
 उपजाति वृत्त का सातवाँ भेद।
जायाजीव-(सं. पुं.) नट, वेश्यापति;
 (वि.) पत्नी की कमाई खानेवाला।
जायात्व-(सं. पुं.) पत्नीत्व, स्त्री का धर्म।
जायी-(सं. वि.) जययुक्त; (पुं.) ध्रुपद
 जाति का एक ताल।
जार-(सं. पुं.) पराई स्त्री से प्रेम करने-
 वाला पुरुष, उपपति, यार, परस्त्रीगामी;
 (वि.) नाश करनेवाला, मारनेवाला।
जारक-(सं. वि.) पाचन करनेवाला।
जारकर्म-(सं. पुं.) व्यभिचार, छिनाला।
जारज-(सं. पुं.) किसी स्त्री की उसके उप-
 पति से जनमी हुई सन्तान; -**योग**-(पुं)
 फलित ज्योतिष में कहा हुआ वह योग
 जिससे यह सिद्धान्त निकाला जाता है कि
 बालक अपनी माता के उपपति से उत्पन्न है।
जारजन्मा, **जारजात**-(सं. पुं.) उपपति
 से उत्पन्न पुत्र।
जारण-(सं. पुं.) चातु इत्यादि का भस्म
 बनाना, जलाना।

जारणी—(सं. स्त्री.) सफेद जीरा ।
 जारता—(सं. स्त्री.) उपपतित्व ।
 जारना—(हि. क्रि. स.) देखें 'जलाना' ।
 जारा—(हि. पुं.) सोनार की सोना-चाँदी गलाने की भट्ठी ।
 जारिणी—(सं. स्त्री.) दुश्चरित्रा स्त्री, पुंश्चली, छिनाल स्त्री ।
 जारित—(सं. वि.) शुद्ध किया हुआ, शोधित ।
 जारी—(अ. वि.) प्रचलित ।
 जालंधर—(सं. पुं.) शतद्रु और चन्द्रमागा नदियों के बीच का देश ।
 जालंधरी विद्या—(हि. स्त्री.) इन्द्रजाल ।
 जालंध्र—(सं. पुं.) झरोखे की जाली ।
 जाल—(सं. पुं.) पशु-पक्षी या मछली पकड़ने के लिये तार, सूत आदि का दूर-दूर पर बुना हुआ पट, गवाक्ष, झरोखा, समूह, किसी को फँसाने की युक्ति; दम्भ, घमंड, अहंकार, इन्द्रजाल, कदम्ब वृक्ष, लोहे के तार की बनी हुई जाली, एक प्रकार की तोप, मकड़ी का जाला; (मुहा.)—फँसाना या बिछाना—किसी को फँसाने की युक्ति करना; (अ. पुं.) किसी को ठगने के अभिप्राय से बनाया हुआ झूठा लिखित लेख्य-पत्र आदि, झूठी काररवाई ।
 जालक—(सं. पुं.) गवाक्ष, झरोखा ।
 जालकारक—(सं. पुं.) जाल बनानेवाला ।
 जालकिरिच—(हि. स्त्री.) परतला लगी हुई पेटी या पट्टी ।
 जालक्रीट—(सं. पुं.) मकड़ा, मकड़ी के जाल में फँसा हुआ कीड़ा ।
 जालजीवी—(सं. पुं.) धीवर, मछुआ ।
 जालदार—(हि. वि.) जिसमें जाल के समान बहुत-से छेद हों ।
 जालना—(हि. क्रि. स.) जलाना ।
 जालपाद—(सं. पुं.) हंस, जावालिक ऋषि के एक शिष्य का नाम ।
 जालबंद—(हि. पुं.) एक प्रकार का गलीचा जिसमें जाल की तरह वेल बनी होती है ।
 जालसाज—(अ. पुं.) वह जो दूसरों को ठगने के लिए बनावटी लेख्य-पत्रादि बनावे या और कोई जाल करे; जालिया ।
 जालसाजी—(फा. स्त्री.) जाल करने का काम, फरेव ।
 जाला—(हि. पुं.) मकड़ी का बनाया हुआ जाल, आँख का एक रोग जिसमें पुतली के ऊपर झिल्ली पड़ जाती है, माँड़ा, पानी रखने का मिट्टी का बड़ा पात्र ।
 जालाक्ष—(सं. पुं.) गवाक्ष, झरोखा ।
 जालिक—(सं. पुं.) धीवर, मछुआ, मकड़ी मदारी ।

जालिका—(सं. स्त्री.) कवच, वस्त्र, चिड़ियों को पकड़ने का जाल, मकड़ी ।
 जालिनी—(सं. स्त्री.) तरौई, घिया ।
 जालिम—(अ. वि.) जुलम करनेवाला, अत्याचारी ।
 जालिया—(हि. वि.) धोखा देनेवाला; (पुं.) जाल से मछली पकड़नेवाला, धीवर ।
 जाली—(अ. वि.) नकली (वस्तावेज, लेख्य आदि) ।
 जाली—(हि. स्त्री.) पत्थर, धातु आदि के पट्ट पर बने हुए छोटे-छोटे छिद्र, एक प्रकार का कसीदे का काम, महीन छेदवाला वस्त्र, कच्चे आम की गूठली के ऊपर के रेशे; -दार—(हि. वि.) जिसमें जाली बनी हो ।
 जालीलेट—(हि. पुं.) एक प्रकार का जाली-दार वस्त्र ।
 जाल्म—(सं. वि.) नीच, पामर, मूर्ख ।
 जावक—(सं. पुं.) लाह से बना हुआ लाल रंग, अलता, महावर ।
 जावत—(हि. अव्य.) देखें 'यावत्' ।
 जावन—(हि. पुं.) देखें 'जामन' ।
 जावन्य—(सं. पुं.) द्रुत गति ।
 जावित्री—(हि. स्त्री.) जायफल के ऊपर का छिलका जो सुगन्धित होता है । (यह औषधों में प्रयुक्त होती है) ।
 जाषनी—(हि. स्त्री.) देखें 'यक्षिणी' ।
 जासु—(हि. सर्व.) जिसका ।
 जामू—(हि. पुं.) अफीम और पान के पत्ते से बना मादक द्रव्य ।
 जामूस—(हि. पुं.) छिपकर अपराधों का भेद लेनेवाला पुलिस कर्मचारी, खुफिया पुलिस ।
 जामूसी—(हि. स्त्री.) जामूस का काम ।
 जाहक—(सं. पुं.) घोघा, जोक, गिरगिट ।
 जाहिर—(अ. वि.) प्रकट; व्यक्त, खुला हुआ ।
 जाहिरा—(अ. अव्य.) ऊपर से, प्रकट रूप से ।
 जाहिल—(अ. वि.) मूर्ख, जड़, अज्ञान ।
 जाहिली—(अ. स्त्री.) मूर्खता, जड़ता ।
 जाही—(हि. स्त्री.) चमेली की जाति का एक प्रकार का सुगन्धित फूल, एक प्रकार की आतिशबाजी ।
 जाह्नवी—(सं. स्त्री.) जहू, तुतनया, गंगा नदी ।
 जिदगी—(फा. स्त्री.) जीवन, आयु, जीवन-काल ।
 जिदा—(फा. वि.) जीता हुआ, जीवित ।
 जिदाना—(हि. क्रि. स.) जिमाना, भोजन कराना ।
 जित्त—(अ. स्त्री) वस्तु, रोजगार का माल, गल्ला, असवाव ।
 जिसचार—(अ. वि.) वर्ग के अनुसार;

(पुं.) पटवारियों की एक बही ।
 जिसवारी—(अ. स्त्री.) वर्गीकरण ।
 जिआना—(हि. क्रि. स.) देखें 'जिलाना' ।
 जिउ—(हि. पुं.) देखें जीव ।
 जिउका—(हि. स्त्री.) देखें 'जीविका' ।
 जिउकिया—(हि. पुं.) जीविका कमानेवाला, व्यवसायी, रोजगारी, पहाड़ी लोग जो जंगलों से वस्तुएँ लाकर नगरों में बेचते हैं ।
 जिउतिया—(हि. स्त्री.) आदिवन मास की अष्टमी के दिन होनेवाला एक व्रत, जिताष्टमी ।
 जिकिर—(हि. पुं.) देखें 'जिक्र' ।
 जिक्—(अ. पुं) चर्चा, प्रसंग, हवाला, संकेत ।
 जिगमिषा—(सं. स्त्री.) गमन करने की इच्छा ।
 जिगर—(फा. पुं.) यकृत, कलेजा, सार, साहस ।
 जिगरा—(हि. पुं.) साहस ।
 जिगरी—(फा. वि.) जिगर का, दिली, हादिक, धनिष्ट ।
 जिगीधा—(सं. स्त्री.) विजय प्राप्त करने की इच्छा, उद्यम, उद्योग ।
 जिगीषु—(सं. वि.) जो श्रेष्ठता चाहता हो, परिश्रमी, मेहनती ।
 जिघत्सा—(सं. स्त्री.) भोजन करने की इच्छा, भूख ।
 जिघांसक—(सं. वि.) हिंसक, हत्यारा ।
 जिघांसी—(सं. वि.) वध करनेवाला ।
 जिघांसु—(सं. वि.) मारनेवाला, जिघांसी ।
 जिच, जिच्च—(हि. स्त्री.) विवशता, शतरंज के खेल में वह स्थिति जब एक पक्ष के खेलाड़ी को कोई मोहरा चलने की जगह नहीं रहती, गतिरोध; (वि.) विवशा ।
 जिजीविषा—(सं. स्त्री.) जीने की इच्छा ।
 जिजीविषु—(सं. वि.) जीने की इच्छा करनेवाला ।
 जिज्ञासन—(सं. पुं.) जानने की इच्छा से पूछना, पूछताछ ।
 जिज्ञासवान—(सं. वि.) जिज्ञासु, पूछताछ करनेवाला ।
 जिज्ञासा—(सं. स्त्री.) ज्ञान प्राप्त करने की कामना, जानने की इच्छा, प्रश्न ।
 जिज्ञासित—(सं. वि.) जो पूछा गया हो ।
 जिज्ञासु—(सं. वि.) ज्ञान प्राप्त करने के लिये इच्छुक, जानने की इच्छा रखने वाला, खोजी, मुमुक्षु ।
 जिज्ञास्यज्ञान—(सं. वि.) जो विषय पूछा जाता हो ।
 जिठानी—(हि. स्त्री.) पति के बड़े भाई की स्त्री, जैठानी ।
 जित्—(सं. वि.) जीतनेवाला, जेता ।

जित- (सं. वि.) पराजित, जीता हुआ;
(हि. वि.) जीतनेवाला; (हि. अव्य.)
जिघर, जिस ओर।
जितक्रोध- (सं. वि.) जिसको क्रोध न
हो; (पुं.) विष्णु।
जितना- (हि. वि.) जिस मात्रा का,
जिस परिमाण का।
जितमन्यु- (सं. वि.) क्रोधशून्य; (पुं.)
विष्णु।
जितवना- (हि. क्रि.स.) देखें 'जिताना'।
जितवाना- (हि. क्रि.स.) जीतने में समर्थ
करना, जिताना।
जितवार, जितवैया- (हिं. वि.) जीतने-
वाला।
जितशत्रु- (सं. पुं.) विजयी, जिसने शत्रु
को पराजित किया हो।
जितात्मा- (सं. वि.) देखें 'जितेंद्रिय'।
जिताना- (हि. क्रि.स.) जीतने में सहायता
देना।
जितारि- (सं. पुं.) कामादि शत्रुओं को
जीतनेवाला; (पुं.) बुद्ध।
जिताष्टमी- (सं. स्त्री.) जिउतिया,
आश्विन कृष्णा अष्टमी का व्रत,
(हिन्दुओं की पुत्रवती स्त्रियाँ यह व्रत
रखती हैं।)
जिताहार- (सं. पुं.) वह जिसने क्षुधा को
वश में कर लिया हो।
जितेंद्रिय- (सं. वि., पुं.) जिसने अपनी
इन्द्रियों को अपन वश में कर लिया हो,
शान्त स्वभाववाला मनुष्य।
जितेंद्रियता- (सं. स्त्री.) जितेंद्रिय होने
का भाव।
जिते- (हि. वि.) (संख्या में) जितने।
जितै- (हि. अव्य.) जिघर, जिस ओर।
जितैया- (हि. वि.) जीतनेवाला।
जितो- (हि. वि.) जितना; (अव्य.)
जिस मात्रा में।
जित्वर- (सं. वि.) जेता, जीतनेवाला।
जिद- (फा. स्त्री.) हठ, अड़, दुराग्रह,
वैर, शत्रुता।
जिद्वन- (अ. अव्य.) जिदवश।
जिद्वी- (फा. वि.) हठी, दुराग्रही।
जिघर- (हि. अव्य.) जहाँ, जिस ओर।
जिन- (सं. पुं.) बुद्ध, विष्णु, सूर्य, जैनों के
तीर्थकर; (हि. सर्व.) 'जिस' का बहुवचन;
(अ. पुं.) भूत, प्रेत; (मुहा.) -सवार
होना- क्रोध में आपे से बाहर होना।
जिनि- (हि. अव्य.) जनि, मत, नहीं।
जिनिस- (हि. स्त्री.) देखें 'जिस'।
जिज्ञाती- (अ. वि.) जिन का, जिन संबंधी।

जिन्ह- (हि. सर्व.) देखें 'जिन'।
जिन्भा, जिन्भ्या- (हि. स्त्री.) देखें 'जिह्वा'।
जिमाना- (हि. क्रि. स.) भोजन कराना,
खाना खिलाना।
जिमि- (हि. अव्य.) ज्यों, जैसे, जिस
प्रकार से।
जिमीदार- (हि. पुं.) जमींदार, भूस्वामी।
जिम्मा- (अ. पुं.) उत्तरदायित्व, सपुर्दगी,
देखरेख; (मुहा.) -लेना- उत्तरदायित्व
लेना; (किसी के) जिम्मे- किसी के नाम।
जिम्मेदार- (अ. वि.) उत्तरदायी, जवाब-
देह।
जिम्मेदारी- (अ. स्त्री.) उत्तरदायित्व,
जवाबदेही।
जिय- (हि. पुं.) जी, चित्त, मन।
जियन- (हि. पुं.) जीवन।
जियवधा- (हि. पुं.) हत्यारा, जल्लाद।
जियरा- (हि. पुं.) जी, जीव।
जियाना- (हि. क्रि. स.) जिलाना, जीवित
रखना, पालना।
जियारी- (हि. स्त्री.) जीवन, जीविका,
चित्त की दृढ़ता, जीवट।
जिरह- (अ. स्त्री.) साक्षी से बकील द्वारा
की जानेवाली पूछताछ, वहस; (फा.
स्त्री.) कवच।
जिरिया- (हि. पुं.) एक प्रकार का अच्छा
पतला धान।
जिरियान- (हि. पुं.) प्रमेह (रोग)।
जिला- (अ. पुं.) प्रशासनिक सुविधा के
लिए प्रांत के विभाजित खंड, प्रदेश।
जिलाट- (सं. पुं.) प्राचीन काल का एक
वाजा।
जिलाना- (हि. क्रि. स.) जीवित करना,
प्राणदान करना, मरने न देना, पालना-
पोसना।
जिलाह- (हि. पुं.) अत्याचारी।
जिलेदार- (हि. पुं.) जमींदार का कारिदा
जो गाँव का लगान वसूल करता है,
सिचाई महकमे का एक कर्मचारी।
जिलेदारी- (हि. स्त्री.) जिलेदार का पद
या कार्य।
जिलेवी- (हि. स्त्री.) देखें 'जलेवी'।
जिल्द- (अ. स्त्री.) पुस्तक का आवरण,
पुस्तक की एक प्रति, खाल, त्वचा,
ऊपर का चमड़ा, पुस्तक का अलग-
अलग प्रकाशित भाग या खंड।
जिल्ददार- (अ. वि.) जिसकी जिल्द
बधी हो।
जिल्दबंदी- (अ. स्त्री.) जिल्द मढ़ने का
काम या धंधा।

जिल्दसाज- (अ. पुं.) जिल्द मढ़नेवाला।
जिल्दसाजी- (अ. स्त्री.) जिल्दबंदी।
जिल्लत- (अ. स्त्री.) अनादर, अपमान,
दुर्गति; (मुहा.) -उठाना- अपमानित
होना।
जिल्होर- (हि. पुं.) एक प्रकार का अच्छा
अगहनिया धान।
जिव- (हि. पुं.) देखें 'जीव'।
जिवाना- (हि. क्रि. स.) देखें 'जिलाना'।
जिष्णु- (सं. पुं.) विष्णु, इन्द्र, अर्जुन,
सूर्य, वसु।
जिस- (हि. सर्व.) "जो" का वह रूप जो
उसे विभक्तियुक्त होने से प्राप्त होता है।
जिसिस- (हि. पुं.) जिस्म, शरीर।
जिस्ता- (हि. पुं.) देखें 'जस्ता' और 'दस्ता'।
जिस्म- (अ. पुं.) शरीर, वदन।
जिस्मी- (अ. वि.) शरीर का, देह संबंधी,
शारीरिक।
जिहाद- (अ. पुं.) मुसलमानों का अन्य
धर्मालंबियों के विरुद्ध युद्ध या लड़ाई,
धर्म की रक्षा के लिए किया जानेवाला
युद्ध।
जिहादी- (सं. वि.) जिहाद का, जिहाद
संबंधी।
जिहान- (सं. वि.) जानेवाला; (पुं.) गमना।
जिहानक- (सं. पुं.) संसार का नाश, प्रलय।
जिहासा- (सं. स्त्री.) त्याग करने की इच्छा।
जिहार्बु- (सं. वि.) हरण करने की इच्छा
करनेवाला।
जिह्वा- (सं. वि.) कुटिल, कपटी, दुष्ट,
अप्रसन्न; -गति- (पुं.) सर्प; (वि.)
टेढ़ी चाल चलनेवाला; -गामी-
(वि.) कुटिल, टेढ़ी चाल चलनेवाला,
मन्दगति; -ता- (स्त्री.) कुटिलता,
मन्दता, टेढ़ापन।
जिह्वित- (सं. वि.) घूमा हुआ, फिरा
हुआ, चकित।
जिह्व- (सं. पुं.) जिह्वा, जीभ, जवान।
जिह्वल- (सं. वि.) भोजन-लोलुप, चटोरा।
जिह्वा- (सं. स्त्री.) रसना, जीभ, जवान।
जिह्वाग्र- (सं. पुं.) जीभ का अग्रभाग,
जीभ की नोक; (क्रि. प्र.) -करना-
कंठस्थ करना।
जिह्वातल- (सं. पुं.) जिह्वा का पृष्ठ
या तल भाग।
जिह्वासल- (सं. पुं.) जीभ पर की मूँल।
जिह्वामूल- (सं. पुं.) जीभ की जड़, जीभ
का पिछला भाग।
जिह्वामूलीय- (सं. पुं.) वह वर्ण
जिसका उच्चारण जिह्वा के मूल

जित-(सं. वि.) पराजित, जीता हुआ;
(हिं. वि.) जीतनेवाला; (हिं. अव्य.)
जिधर, जिस ओर।
जितक्रोध-(सं. वि.) जिसको क्रोध न
हो; (पुं.) विष्णु।
जितना-(हिं. वि.) जिस मात्रा का,
जिस परिमाण का।
जितमन्यु-(सं. वि.) क्रोधशून्य; (पुं.)
विष्णु।
जितवना-(हिं. क्रि.स.) देखें 'जिताना'।
जितवाना-(हिं. क्रि.स.) जीतने में समर्थ
करना, जिताना।
जितवार, जितवैया-(हिं. वि.) जीतने-
वाला।
जितशत्रु-(सं. पुं.) विजयी, जिसने शत्रु
को पराजित किया हो।
जितात्मा-(सं. वि.) देखें 'जितेंद्रिय'।
जिताना-(हिं. क्रि.स.) जीतने में सहायता
देना।
जितारि-(सं. पुं.) कामादि शत्रुओं को
जीतनेवाला; (पुं.) बुद्ध।
जिताष्टमी-(सं. स्त्री.) जिउतिया,
आश्विन कृष्ण अष्टमी का व्रत,
(हिन्दुओं की पुत्रवती स्त्रियाँ यह व्रत
रखती हैं।)
जिताहार-(सं. पुं.) वह जिसने क्षुधा को
वश में कर लिया हो।
जितेंद्रिय-(सं. वि., पु.) जिसने अपनी
इन्द्रियों को अपन वश में कर लिया हो,
शान्त स्वभाववाला मनुष्य।
जितेंद्रियता-(सं. स्त्री.) जितेंद्रिय होने
का भाव।
जिते-(हिं. वि.) (संख्या में) जितने।
जितै-(हिं. अव्य.) जिधर, जिस ओर।
जितैया-(हिं. वि.) जीतनेवाला।
जितो-(हिं. वि.) जितना; (अव्य.)
जिस मात्रा में।
जित्वर-(सं. वि.) जेता, जीतनेवाला।
जिद-(फा. स्त्री.) हठ, अड़, दुराग्रह,
वैर, शत्रुता।
जिदन-(अ. अव्य.) जिदवश।
जिदी-(फा. वि.) हठी, दुराग्रही।
जिधर-(हिं. अव्य.) जहाँ, जिस ओर।
जिन-(सं. पुं.) बुद्ध, विष्णु, सूर्य, जैनों के
तीर्थंकर; (हिं. सर्व.) 'जिस' का बहुवचन;
(अ. पुं.) भूत, प्रेत; (मुहा.) -सवार
होना-क्रोध में आपसे बाहर होना।
जिनि-(हिं. अव्य.) जनि, मत, नहीं।
जिनिस-(हिं. स्त्री.) देखें 'जिस'।
जिजाती-(अ. वि.) जिन का, जिन संबंधी।

जिन्ह-(हिं. सर्व.) देखें 'जित'।
जिम्भा, जिम्बा-(हिं. स्त्री.) देखें 'जिह्वा'।
जिमाना-(हिं. क्रि. स.) भोजन कराना,
खाना खिलाना।
जिसि-(हिं. अव्य.) ज्यों, जैसे, जिस
प्रकार से।
जिमीदार-(हिं. पुं.) जमींदार, भूस्वामी।
जिम्मा-(अ. पुं.) उत्तरदायित्व, सपुर्दगी,
देखरेख; (मुहा.) -लेना-उत्तरदायित्व
लेना; (किसी के) जिम्मे-किसी के नाम।
जिम्मेदार-(अ. वि.) उत्तरदायी, जवाब-
देह।
जिम्मेदारी-(अ. स्त्री.) उत्तरदायित्व,
जवाबदेही।
जिय-(हिं. पुं.) जी, चित्त, मन।
जियन-(हिं. पुं.) जीवन।
जियवधा-(हिं. पुं.) हत्यारा, जल्लाद।
जियरा-(हिं. पुं.) जी, जीव।
जियाना-(हिं. क्रि. स.) जिलाना, जीवित
रखना, पालना।
जियारी-(हिं. स्त्री.) जीवन, जीविका,
चित्त की दृढ़ता, जीवट।
जिरह-(अ. स्त्री.) साक्षी से वकील द्वारा
की जानेवाली पूछताछ, वहस; (फा.
स्त्री.) कवच।
जिरिया-(हिं. पुं.) एक प्रकार का अच्छा
पतला घान।
जिरियान-(हिं. पुं.) प्रमेह (रोग)।
जिला-(अ. पुं.) प्रशासनिक सुविधा के
लिए प्रांत के विभाजित खंड, प्रदेश।
जिलाट-(सं. पुं.) प्राचीन काल का एक
वाजा।
जिलाना-(हिं. क्रि. स.) जीवित करना,
प्राणदान करना, मरने न देना, पालना-
पोसना।
जिलाह-(हिं. पुं.) अत्याचारी।
जिलेदार-(हिं. पुं.) जमींदार का कारिदा
जो गाँव का लगान वसूल करता है,
सिचाई महकमे का एक कर्मचारी।
जिलेदारी-(हिं. स्त्री.) जिलेदार का पद
या कार्य।
जिलेबी-(हिं. स्त्री.) देखें 'जिलेबी'।
जिल्द-(अ. स्त्री.) पुस्तक का आवरण,
पुस्तक की एक प्रति, खाल, त्वचा,
ऊपर का चमड़ा, पुस्तक का अलग-
अलग प्रकाशित भाग या खंड।
जिल्ददार-(अ. वि.) जिसकी जिल्द
बधी हो।
जिल्दवंदी-(अ. स्त्री.) जिल्द मढ़ने का
काम या धंधा।

जिल्दसाज-(अ. पुं.) जिल्द मढ़नेवाला।
जिल्दसाजी-(अ. स्त्री.) जिल्दवंदी।
जिल्लत-(अ. स्त्री.) अनादर, अपमान,
दुर्गति; (मुहा.) -उठाना-अपमानित
होना।
जिल्होर-(हिं. पुं.) एक प्रकार का अच्छा
अगहनिया घान।
जिव-(हिं. पुं.) देखें 'जीव'।
जिवाना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'जिलाना'।
जिष्णु-(सं. पुं.) विष्णु, इन्द्र, अर्जुन,
सूर्य, वसु।
जिस-(हिं. सर्व.) 'जो' का वह रूप जो
उसे विभक्तियुक्त होने से प्राप्त होता है।
जिसिम-(हिं. पुं.) जिस्म, शरीर।
जिस्ता-(हिं. पुं.) देखें 'जस्ता' और 'दस्ता'।
जिस्म-(अ. पुं.) शरीर, बदन।
जिस्मी-(अ. वि.) शरीर का, देह संबंधी,
शारीरिक।
जिहाद-(अ. पुं.) मुसलमानों का अथ
धर्मालंबियों के विरुद्ध युद्ध या लड़ाई,
धर्म की रक्षा के लिए किया जानेवाला
युद्ध।
जिहादी-(सं. वि.) जिहाद का, जिहाद
संबंधी।
जिहान-(सं. वि.) जानैवाला; (पुं.) गमन।
जिहानक-(सं. पुं.) संसार का नाश, प्रलय।
जिहासा-(सं. स्त्री.) त्याग करने की इच्छा।
जिहीर्षु-(सं. वि.) हरण करने की इच्छा
करनेवाला।
जिह्वा-(सं. वि.) कुटिल, कपटी, दुष्ट,
अप्रसन्न; -गति-(पुं.) सर्प; (वि.)
टेढ़ी चाल चलनेवाला; -गामो-
(वि.) कुटिल, टेढ़ी चाल चलनेवाला,
मन्दगति; -ता-(स्त्री.) कुटिलता,
मन्दता, टेढ़ापन।
जिह्वित-(सं. वि.) घूमा हुआ, फिरा
हुआ, चकित।
जिह्व-(सं. पुं.) जिह्वा, जीभ, जवान।
जिह्वल-(सं. वि.) भोजन-लोलुप, चटोरा।
जिह्वा-(सं. स्त्री.) रसना, जीभ, जवान।
जिह्वाग्र-(सं. पुं.) जीभ का अग्रभाग,
जीभ की नोक; (क्रि. प्र.) -करना-
कंठस्थ करना।
जिह्वातल-(सं. पुं.) जिह्वा का पृष्ठ
या तल भाग।
जिह्वामल-(सं. पुं.) जीभ पर की मूँल।
जिह्वामूल-(सं. पुं.) जीभ की जड़, जीभ
का पिछला भाग।
जिह्वामूलीय-(सं. पुं.) वह वर्ण
जिसका उच्चारण जिह्वा के मूल

जित-(सं. वि.) पराजित, जीता हुआ;
(हि. वि.) जीतनेवाला; (हि. अव्य.)
जिघ्र, जिस ओर।
जितक्रोध-(सं. वि.) जिसको क्रोध न
हो; (पुं.) विष्णु।
जितना-(हि. वि.) जिस मात्रा का,
जिस परिमाण का।
जितमन्यु-(सं. वि.) क्रोधशून्य; (पुं.)
विष्णु।
जितवना-(हि. क्रि.स.) देखें 'जिताना'।
जितवाना-(हि. क्रि.स.) जीतने में समर्थ
करना, जिताना।
जितवार, जितद्वया-(हिं. वि.) जीतने-
वाला।
जितशत्रु-(सं. पुं.) विजयी, जिसने शत्रु
को पराजित किया हो।
जितात्मा-(सं. वि.) देखें 'जितेन्द्रिय'।
जिताना-(हि. क्रि.स.) जीतने में सहायता
देना।
जितारि-(सं. पुं.) कामादि शत्रुओं को
जीतनेवाला; (पुं.) बुद्ध।
जिताष्टमी-(सं. स्त्री.) जिउतिया,
आश्विन कृष्ण अष्टमी का व्रत,
(हिन्दुओं की पुत्रवती स्त्रियाँ यह व्रत
रखती हैं।)
जिताहार-(सं. पुं.) वह जिसने क्षुधा को
वश में कर लिया हो।
जितेन्द्रिय-(सं. वि., पु.) जिसने अपनी
इन्द्रियों को अपन वश में कर लिया हो,
शान्त स्वभाववाला मनुष्य।
जितेन्द्रियता-(सं. स्त्री.) जितेन्द्रिय होने
का भाव।
जिते-(हि. वि.) (संख्या में) जितने।
जिते-(हि. अव्य.) जिघ्र, जिस ओर।
जितैया-(हि. वि.) जीतनेवाला।
जितो-(हि. वि.) जितना; (अव्य.)
जिस मात्रा में।
जित्वर-(सं. वि.) जेता, जीतनेवाला।
जिद-(फा. स्त्री.) हठ, अड़, दुराग्रह,
वैर, शत्रुता।
जिद्वन-(अ. अव्य.) जिदवश।
जिद्वी-(फा. वि.) हठी, दुराग्रही।
जिघ्र-(हि. अव्य.) जहर्, जिस ओर।
जिन-(सं. पुं.) वृद्ध, विष्णु, सूर्य, जैनों के
तीर्थकार; (हि. सर्व.) 'जिस' का बहुवचन;
(अ. पुं.) भूत, प्रेत; (मुहा.) -सदार
होना-क्रोध में आपसे से बाहर होना।
जिनि-(हि. अव्य.) जनि, मत, नहीं।
जिनिस-(हि. स्त्री.) देखें 'जिस'।
जिघ्राती-(अ. वि.) जिन का, जिन संबंधी।

जिन्ह-(हि. सर्व.) देखें 'जिन'।
जिम्भा, जिम्बा-(हि. स्त्री.) देखें 'जिह्वा'।
जिमाना-(हि. क्रि. स.) भोजन कराना,
खाना खिलाना।
जिभि-(हि. अव्य.) ज्यों, जैसे, जिस
प्रकार से।
जिमीदार-(हि. पुं.) जमीदार, भूस्वामी।
जिम्मा-(अ. पुं.) उत्तरदायित्व, सपुर्दगी,
देखरेख; (मुहा.) -लेना-उत्तरदायित्व
लेना; (किसी के) जिम्मे-किसी के नाम।
जिम्मेदार-(अ. वि.) उत्तरदायी, जवाब-
देह।
जिम्मेदारी-(अ. स्त्री.) उत्तरदायित्व,
जवाबदेही।
जिय-(हि. पुं.) जी, चित्त, मन।
जियन-(हि. पुं.) जीवन।
जियबधा-(हि. पुं.) हत्यारा, जल्लाद।
जियरा-(हि. पुं.) जी, जीव।
जियाना-(हि. क्रि. स.) जिलाना, जीवित
रखना, पालना।
जिधारी-(हि. स्त्री.) जीवन, जीविका,
चित्त की दृढ़ता, जीवट।
जिरह-(अ. स्त्री.) साक्षी से वकील द्वारा
की जानेवाली पूछताछ, वहस; (फा.
स्त्री.) कवच।
जिरिया-(हि. पुं.) एक प्रकार का अच्छा
पतला घान।
जिरियान-(हि. पुं.) प्रमेह (रोग)।
जिला-(अ. पुं.) प्रशासनिक सुविधा के
लिए प्रांत के विभाजित खंड, प्रदेश।
जिलाट-(सं. पुं.) प्राचीन काल का एक
वाजा।
जिलाना-(हि. क्रि. स.) जीवित करना,
प्राणदान करना, मरने न देना, पालना-
पोसना।
जिलाह-(हि. पुं.) अत्याचारी।
जिलेदार-(हि. पुं.) जमींदार का कारिदा
जो गाँव का लगान वसूल करता है,
सिचाई महकमे का एक कर्मचारी।
जिलेदारी-(हि. स्त्री.) जिलेदार का पद
या कार्य।
जिलेवी-(हि. स्त्री.) देखें 'जलेवी'।
जिल्द-(अ. स्त्री.) पुस्तक का आवरण,
पुस्तक की एक प्रति, खाल, त्वचा,
ऊपर का चमड़ा, पुस्तक का अलग-
अलग प्रकाशित भाग या खंड।
जिल्ददार-(अ. वि.) जिसकी जिल्द
बधी हो।
जिल्दवंदी-(अ. स्त्री.) जिल्द मढ़ने का
काम या घंघा।

जिल्दसाज-(अ. पुं.) जिल्द मढ़नेवाला।
जिल्दसाजी-(अ. स्त्री.) जिल्दवंदी।
जिल्लत-(अ. स्त्री.) अनादर, अपमान,
दुर्गति; (मुहा.) -उठाना-अपमानित
होना।
जिल्होर-(हि. पुं.) एक प्रकार का अच्छा
अगहनिया घान।
जिव-(हि. पुं.) देखें 'जीव'।
जिवाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'जिलाना'।
जिष्णु-(सं. पुं.) विष्णु, इन्द्र, अर्जुन,
सूर्य, वसु।
जिस-(हि. सर्व.) "जो" का वह रूप जो
उसे विभक्तियुक्त होने से प्राप्त होता है।
जिसिम-(हि. पुं.) जिस्म, शरीर।
जिस्ता-(हि. पुं.) देखें 'जस्ता' और 'दस्ता'।
जिस्म-(अ. पुं.) शरीर, वदन।
जिस्मी-(अ. वि.) शरीर का, देह संबंधी,
शारीरिक।
जिहाद-(अ. पुं.) मुसलमानों का अन्य
धर्मालंबियों के विरुद्ध युद्ध या लड़ाई,
धर्म की रक्षा के लिए किया जानेवाला
युद्ध।
जिहादी-(सं. वि.) जिहाद का, जिहाद
संबंधी।
जिहान-(सं. वि.) जानेवाला; (पुं.) गमना।
जिहानक-(सं. पुं.) संसार का नाश, प्रलय।
जिहासा-(सं. स्त्री.) त्याग करने की इच्छा।
जिहीर्षु-(सं. वि.) हरण करने की इच्छा
करनेवाला।
जिह्वा-(सं. वि.) कुटिल, कपटी, दुष्ट,
अप्रसन्न; -गति-(पुं.) सर्प; (वि.)
टेढ़ी चाल चलनेवाला; -गामी-
(वि.) कुटिल, टेढ़ी चाल चलनेवाला,
मन्दगति; -ता-(स्त्री.) कुटिलता,
मन्दता, टेढ़ापन।
जिह्वित-(सं. वि.) घूमा हुआ, फिरा
हुआ, चकित।
जिह्व-(सं. पुं.) जिह्वा, जीभ, जवान।
जिह्वल-(सं. वि.) भोजन-लीलुप, चटोरा।
जिह्वा-(सं. स्त्री.) रसना, जीभ, जवान।
जिह्वाप्र-(सं. पुं.) जीभ का ग्रन्थिभाग,
जीभ की नोक; (क्रि. प्र.) -करना-
कंठस्थ करना।
जिह्वातल-(सं. पुं.) जिह्वा का पृष्ठ
या तल भाग।
जिह्वामल-(सं. पुं.) जीभ पर की मूँल।
जिह्वामूल-(सं. पुं.) जीभ की जड़, जीभ
का पिछला भाग।
जिह्वामूलीय-(सं. पुं.) वह वर्ण
जिसका उच्चारण जिह्वा के मूल

सेहोता है; यथा—क, ख, ग, घ तथा ङ ।
जिह्वा—लिह—(सं.पुं.) कुक्कुर, कुत्ता ।
जिह्वा—लौल्य—(सं.स्त्री.) भुक्खड़पन ।
जीगन—(हिं.पुं.) जुगनू ।

जी—(हिं.पुं.) चित्त, मन, दम, जीवट,
डच्छा, सकल्प; (अव्य.) एक सम्मान-
सूचक शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम के
पीछे लगाया जाता है; यह शब्द बड़ों के
प्रतिहामी भरने या स्वीकृतिमें भी प्रयुक्त
होता है; (मुहा.) (किसी पर)—आना—
प्रेमासक्त होना; —उचटना—मन न
लगना; —उड़ जाना—चित्त व्यग्र होना;
—करना—साहस करना; —की लगी—मन में
समायी बात (प्रेम); —को लगना—
दिल को चोट पहुँचना; —खट्टा होना—
घृणा उत्पन्न होना; —खोलकर—विना
संकोच के, यथेष्ट; —चलना—अभिलाषा
होना; —चुराना—काम करने में बालस्य
करना; —छोटा करना—उदारता न
दिखलाना; —जान देना—अति प्रेम
करना; —टँगा रहना—चिन्तित रहना;
—ठंडा होना—कलेजा जुड़ना; —तरसना—
मन का ललचना; —डुखना—मन में कष्ट
होना; —घड़कना—कलेजा घड़कना;
—पर आ बनना—ज्ञान वचाना कठिन हो
जाना; पर खेलना—प्राणों को संकट
में डालकर काम करना; —बहलाना—
मनोरंजन का उपाय करना; —बिगड़ना—
मचली आना; —भर आना—दया, कृपा
आदि का प्रादुर्भाव होना; —भरकर—
यथेष्ट; —भरना—सन्तुष्ट होना; —पच-
लाना—वमन करने की मचली होना;
—में आना—इच्छा होना, विचार उठना;
—में बसना—सदा याद रहना; —में रखना—
सदा याद रखना; —लगना—चित्त एकाग्र
होना, प्रेम होना; —से—ध्यानपूर्वक;
—से उतर जाना—चित्त से हट जाना,
अच्छा न लगना; —से जाना—मर जाना ।

जीअ, जीउ—(हिं.पुं.) देखें 'जीव' ।

जीगन—(हिं.पुं.) खद्योत, जुगनू ।

जीजा—(हिं.पुं.) बड़ी वहिन का पति,
वहनोंई ।

जीजी—(हिं.स्त्री.) बड़ी वहिन ।

जीत—(हिं.स्त्री.) जय, विजय, लाभ,
ऐसे कार्य में सफलता जिसमें अन्य प्रति-
योगी या विपक्षी हों ।

जीतना—(हिं.क्रि.सं.) विजय प्राप्त करना,
शत्रु को हराना, किसी ऐसे कार्य में
सफलता प्राप्त करना जिसमें अन्य प्रति-
योगी या विपक्षी हों ।

जीतल—(हिं.स्त्री.) एक प्रकार की
ताँबे की प्राचीन मुद्रा ।

जीता—(हिं.वि.) जीवित, तौल या नाप
में कुछ अधिक; —जागता—(वि.)
प्रत्यक्ष शक्ति, संपन्न, शक्तिमान, सचेत;
—लोहा—(पुं.) चुन्बक; जीते जी—(अव्य.)
प्राण रहते हुए; जीते-मरते—(अव्य.)
बड़ी कठिनाई या दिक्कत से ।

जीतालू—(हिं.पुं.) अरास्ट ।

जीति—(सं.स्त्री.) जय, जीत, हानि ।

जीन—(सं.वि.) जीर्ण, पुराना, वृद्ध, बुढ़ा ।

जीन—(फा.पुं.) धोड़े पर की काठी,
पलान, एक मोटा कपड़ा; —साज—(पुं.)
जीन बनानेवाला ।

जीना (हिं.क्रि.अ.) जीवित रहना, प्रसन्न
या प्रफुल्लित होना; (मुहा.)—भारी
होना—जीवन दुःखमय होना ।

जीना—(फा.पुं.) सीढ़ी, सोपान ।

जीभ—(हिं.स्त्री.) जिह्वा, रसना; (मुहा.)
—चलना—स्वादपिष्ट पदार्थों को खाने की
मन चलना; —पकड़ना—बोलने न देना;
—हिलाना—मुँह से शब्द निकालना ।

जीभी—(हिं.स्त्री.) जीभ के आकार की
कोई वस्तु, जीभ की मूल हटाने की पतली
धनुषाकार पट्टी, लोहे या पीतल की निव,
टोटी जीभ, गलशुण्डी; —चाभा—(पुं.)
चौपायों का एक रोग ।

जीमट—(हिं.पुं.) पिड़-पाँधों की शाखा के
भीतर का गूदा ।

जीमना—(हिं.क्रि.सं.) भोजन करना ।

जीमूत—(सं.पुं.) पर्वत, पहाड़, मेघ,
वादल, मोथा, इन्द्र, सूर्य, एक प्रकार का
दंडक वृत्त; —बाहन—(पुं.) मेघवाहन,
इन्द्र; —वाही—(पुं.) धमू, धुआँ ।

जीय—(हिं.पुं.) देखें 'जी' ।

जीयट—(हिं.पुं.) देखें 'जीवट' ।

जीयति—(हिं.स्त्री.) देखें 'जीवन' ।

जीयदान—(हिं.पुं.) प्राणदान, जीवनदान ।

जीर—(सं.पुं.) जीरक, जीरा, खड्ग, तल-
वार, केसर, पुष्प का जीरा; (वि.) शीघ्र-
भ्रामी, शत्रु को हानि पहुँचानेवाला,
जीर्ण, पुराना ।

जीरक—(सं.पुं.) सौंफ के आकार का एक
पदार्थ, जीरा ।

जीरण—(हिं.वि.) देखें 'जीर्ण' ।

जीरना—(हिं.क्रि.अ.) जीर्ण होना, मुरझाना ।

जीरा—(हिं.पुं.) देखें 'जीरक' ।

जीरी—(हिं.पुं.) अगहन में पकनेवाला
एक प्रकार का धान ।

जीर्ण—(सं.वि.) जरायुक्त, बुढ़ा, पुराना,

फटा-पुराना, बहुत दिनों का, पेट में पचा
हुआ; —ज्वर—(पुं.) पुराना
ज्वर, (ज्वर बारह दिन से अधिक रह
जाने पर जीर्ण ज्वर कहलाता है);
—ता—(स्त्री.) वृद्धत्व, बुढ़ापा, पुराना-
पन; —देह—(पुं.) वृद्ध शरीर, जीर्ण
कलेवर; —संस्कार—(पुं.) पुरानी
वस्तुओं की मरम्मत ।

जीर्णोद्धार—(सं.पुं.) देखें 'जीर्ण-संस्कार' ।

जीला—(हिं.वि.) महीन, पतला ।

जीलानी—(अ.पुं.) एक प्रकार का लाल रंग
जीवंत—(सं.वि.) जीवित, जीता हुआ ।

जीव—(सं.पुं.) प्राणी, जीवधारी, जानवर,
वृहस्पति, कर्ण, वृत्ति, आजीविका,
जीवात्मा, प्राणियों का चेतन-तत्त्व,
आत्मा, अरुल्लेख नक्षत्र ।

जीवक—(सं.पुं.) प्राणधारक, व्याज लेकर
जीविका निर्वाह करनेवाला, सेवक, क्षप-
णक, सँपैरा, पीतसाल वृक्ष, एक जैन मुनि
का नाम ।

जीवप्राह—(सं.पुं.) वन्दी, कैदी ।

जीवज—(सं.वि.) जिसने जीवन ग्रहण
किया हो ।

जीवजीव—(सं.पुं.) चकोर पक्षी ।

जीवट—(हिं.पुं.) साहस, जिगरा ।

जीवति—(हिं.स्त्री.) जीविका ।

जीवत्पति—(सं.स्त्री.) सौभाग्यवती स्त्री,
सोहागिन ।

जीवत्व—(सं.पुं.) जीव का भाव ।

जीवद—(सं.पुं.) वैद्य; (वि.) जीवनदाता ।

जीवदाता—(सं.वि.) जीवनदायी, जीव-
देनेवाला ।

जीवदान—(सं.पुं.) अपने वश में आये
हुए शत्रु को प्राणदान देना, प्राण-रक्षा ।

जीवधन—(सं.पुं.) पशुओं के रूप में
सम्पत्ति, देखें 'जीवनघन' ।

जीवधारी—(सं.पुं.) प्राणी, चेतन,
जन्तु, जानवर ।

जीवन—(सं.पुं.) वृत्ति, जीविका, प्राण-
धारण, पानी, परमेश्वर, गंगा, वायु,
पुत्र, मज्जा, धी, जन्म और मरण के बीच
का काल, जीवित रखनेवाली वस्तु,
प्राणप्यारा, परम प्रिय व्यक्ति, फूल का
केसर ।

जीवन-राम—(सं.पुं.) जीवन-यात्रा, रहन-
सहन का ढंग ।

जीवनचरित—(सं.पुं.) जीवन का वृत्तान्त,
जीवन-वृत्तान्त ग्रन्थ, जीवनी ।

जीवनघन—(सं.पुं.) जीवन का सर्वस्व,
प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्यारा ।

जीवनधार—(हिं. वि.) जीवरक्षक ।
 जीवनदूटी, जीवनमूरि—(हिं. स्त्री.) संजीवनी नामक पौधा जिसके विषय में यह प्रसिद्धि है कि वह मरे को भी जिला देता है ।
 जीवनवृत्त—(सं.पुं.) जीवनचरित्र, जीवनी ।
 जीवनवृत्तान्त—(सं.पुं.) देखें 'जीवन-चरित्र' ।
 जीवनवृत्ति—(सं. वि.) जीविका ।
 जीवनसाधन—(सं.पुं.) देखें 'जीवन-वृत्ति' ।
 जीवनहेतु—(सं.पुं.) देखें 'जीवन-साधन' ।
 जीवना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'जीना' ।
 जीवनाघात—(सं. पुं.) विष, गरल ।
 जीवनावास—(सं. पुं.) वरुण; (वि.) जल में रहनेवाला ।
 जीवनि—(हिं.स्त्री.) संजीवनी दूटी, प्राणाधार ।
 जीवनी—(सं. स्त्री.) काकोली नामक औषधि; (हिं. स्त्री.) जीवन-चरित्र, जीवन का वृत्तान्त ।
 जीवनीय—(सं. पुं.) जल, पानी; (वि.) जीविका चलाने योग्य ।
 जीवनोपाय—(सं. पुं.) जीविका ।
 जीवन्मृत—(सं. वि.) जो आत्मज्ञान के हेतु माया के बन्धन से छूट गया हो ।
 जीवन्मृत—(सं. वि.) जो जीवित दशा में मृतक के समान हो, जिसका जीना-मरना दोनों समान हो ।
 जीवन्वास—(सं. पुं.) मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा का मन्त्र ।
 जीवपति—(सं.स्त्री.) सबवा स्त्री, सोहागिन ।
 जीवग्रभा—(हिं. स्त्री.) आत्मा ।
 जीवबंधु—(हिं. पुं.) गुलदुपहरिया ।
 जीवमंदिर—(सं. पुं.) शरीर, देह ।
 जीवमातृका—(सं. स्त्री.) सात देवियाँ जो माता के समान जीवों का पालन करती हैं, उनके नाम—कुमारी, वनदा, नन्दा, विमला, मंगला, बला और पद्मा—हैं ।
 जीवयाज—(सं. पुं.) पशु-बलि देकर किया जानेवाला यज्ञ ।
 जीवयोनि—(सं.स्त्री.) सजीव जन्तु, जानवर ।
 जीवरत्न—(सं.पुं.) पुष्पराग, पुष्कराज मणि ।
 जीवरा—(हिं. पुं.) प्राण ।
 जीवरि—(हिं. पुं.) प्राण धारण की शक्ति ।
 जीवलोक—(सं.पुं.) मर्त्यलोक, भूलोक, पृथ्वी ।
 जीव-विज्ञान—(सं. पुं.) प्राणियों की शारीरिक रचना, जीवन-ढंग आदि से संबंधित विज्ञान, प्राणि-शास्त्र ।
 जीव-विज्ञानी—(सं. पुं.) जीव-विज्ञान का ज्ञाता ।
 जीववृत्ति—(सं. स्त्री.) पशु पालने का

व्यवसाय ।
 जीव-संक्रमण—(सं. पुं.) जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन ।
 जीवमुत्ता—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका पुत्र जीवित हो ।
 जीवस्थान—(सं. पुं.) शरीर का मर्म-स्थान, हृदय ।
 जीवहत्या, जीवहिंसा—(सं.स्त्री.) प्राणियों का वध, ऐसे वध का दोष ।
 जीवांतक—(सं. पुं.) व्याध, बहेलिया ।
 जीवा—(सं. स्त्री.) ज्या, घनुष की डोरी, जीविका, जीवन, प्राण, हरीतकी ।
 जीवागार—(सं.पुं.) शरीर का मर्मस्थान ।
 जीवाजून—(हिं. पुं.) पशुपक्षी, कीटादि जीव ।
 जीवात्मा—(सं. पुं.) देहस्थे आत्मा, चैतन्य स्वरूप एक पदार्थ, जीव ।
 जीवाधान—(सं. पुं.) शरीर, देह ।
 जीवाधार—(सं.पुं.) हृदय, आत्मा का स्थान ।
 जीवानुज—(सं. पुं.) गर्गाचार्य मुनि ।
 जीविका—(सं. स्त्री.) जीवन का उपाय, भरण-पोषण का साधन, वृत्ति, रोजी ।
 जीवित—(सं. वि.) जीता हुआ ।
 जीवित काल—(सं. पुं.) आयु, वय ।
 जीवितघ्न—(सं. वि.) प्राणनाशक ।
 जीवितान्तक—(सं. वि.) जीवों का वध करनेवाला ।
 जीवी—(सं. वि.) प्राणधारी, जीनेवाला, जीविका कमानेवाला ।
 जीवेश—(सं.पुं.) परमात्मा, ईश्वर ।
 जीवेष्टि—(सं. स्त्री.) ग्रह-शांति के लिये किया जानेवाला यज्ञ ।
 जीह—(हिं. स्त्री.) देख 'जीम', जिह्वा ।
 जुंवली—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की पहाड़ी भैंस ।
 जु—(हिं. अव्य., सर्व.) देखें 'जो' ।
 जुअती—(हिं. स्त्री.) देखें 'युवती' ।
 जुआँ—(हिं. पुं.) देखें 'जू' ।
 जुआ—(हिं. पुं.) वाजी लगाकर हार-जीत का खेल, वह लकड़ी का ढाँचा जो बैल के कन्धे पर रखा जाता है, जति की मुठिया ।
 जुआचोर—(हिं. पुं.) वह जुआरी जो दाँव जीतकर भाग जाता है, ठग, बंचक, धोखे-वाज ।
 जुआचोरी—(हिं. स्त्री.) ठगी ।
 जुआड़ी—(हिं. पुं.) जुआ खेलनेवाला ।
 जुआर—(हिं. स्त्री.) देखें 'ज्वार' ।
 जुआरा—(हिं. पुं.) एक जोड़ी बैल से एक दिन में जोती जानेवाली जमीन ।
 जुआरी—(हिं. पुं.) जुआ खेलनेवाला ।

जुई—(हिं. स्त्री.) छोटी जूँ; सेम, मटर आदि में लगनेवाला छोटा कीड़ा ।
 जुकाम—(अ. पुं.) सरदी से होनेवाला एक रोग जिसमें नाक बहती, हल्का-सा बुखार बना रहता, तथा सिर भारी-भारी रहता है, सरदी; (मुहा.) मँडकी को जुकाम होना—दीन अवस्था होते हुए भी बड़ों की सी मनमानी या चेष्टा ।
 जुग—(हिं. पुं.) देखें 'युग', जोड़ा, युग्म, पीढ़ी, चौसर के खेल में दो गोटियों का एक ही कोष्ठ में इकट्ठा होना ।
 जुगजुगाना—(हिं. क्रि. अ.) जगमगाना, मन्द प्रकाश से चमकना, टिमटिमाना, क्रमशः उन्नति की दशा को प्राप्त होना ।
 जुगजुगी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी चिड़िया ।
 जुगत—(हिं. स्त्री.) युवित, उपाय, व्यवहार में कुशलता, चतुराई, विनोदपूर्ण उचित, चुटकुला ।
 जुगनी—(हिं. स्त्री.) खद्योत, जुगनू, एक प्रकार का हार ।
 जुगनू—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बरसाती छोटा कीड़ा जिसका पिछला भाग चिनगारी की तरह रह-रहकर चमकता है, खद्योत, पान के आकार का एक गहना जिसको स्त्रियाँ गले में पहिनती हैं ।
 जुगम—(हिं. वि.) देखें 'युग्म' ।
 जुगल—(हिं. वि.) देखें 'युगल' ।
 जुगवना—(हिं. क्रि. स.) संचित करना, इकट्ठा करना, सुरक्षित करना, सँभालकर रखना ।
 जुगादरी—(हिं. वि.) जीर्ण, बहूत पुराना ।
 जुगाना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'जुगवना' ।
 जुगार—(हिं. स्त्री.) जुगाली ।
 जुगालना—(हिं. क्रि. अ.) चौपायों का पागुर करना ।
 जुगाली—(हिं. स्त्री.) पशुओं का निगले हुइ चारे को गले से थोड़ा-थोड़ा निकालकर दाँत से चवाने की क्रिया, रोमन्थ, पागुर ।
 जुगुत, जुगुति—(हिं. स्त्री.) युवित, उपाय ।
 जुगुसक—(सं. वि.) दूसरे की व्यर्थ निन्दा करनेवाला ।
 जुगुस्तन—(हिं. पुं.) घृणा, निन्दा, बुराई ।
 जुगुस्ता—(सं. स्त्री.) निन्दा, बुराई, घृणा ।
 जुगुस्तित—(सं. वि.) घृणित, निन्दित ।
 जुगुप्सु—(सं. वि.) निन्दक, बुराई करनेवाला ।
 जुगुल—(हिं. वि.) युग्म, जोड़ा ।
 जुज—(फा. पुं.) अंश, टुकड़ा, भाग, छपे ताव का न या १६ पृष्ठों का भँजा हुआ, फार्मः

-बंदी-(स्त्री.) किताब के अलग-अलग फर्मां को सीकर होनेवाली जिल्द-बँधाई।
 जुझ-(हि. पूं.) देखें 'युद्ध'।
 जुझवाना-(हि. क्रि. स.) जुझाना, लड़ा देना।
 जुझाऊ-(हि. वि.) युद्ध संबंधी, लड़ाई में काम आनेवाला।
 जुझाना-(हि. क्रि. स.) जुझने को प्रेरित करना।
 जुझार-(हि. वि.) लड़नेवाला, लड़ाका, वीर; (पुं) लड़ाई।
 जुट-(हि. स्त्री.) दो वस्तुओं का समूह, जोड़ी, मंडली, जत्या, दल।
 जुटक-(सं. पूं.) सिर के उलझे हुए बाल, जटा।
 जुटना-(हि. क्रि. अ.) संबद्ध होना, संश्लिष्ट होना, सटना, चिपकना, लगा रहना, प्रसंग करना, मँथुन करना, एकत्र होना, प्रवृत्त होना, किसी कार्य में सम्मिलित होना, इकट्ठा होना, मिलना, सहमत होना।
 जुटली-(हि. वि.) लंबे बालों की जटा रखनेवाला।
 जुटाना-(हि. क्रि. स.) दो या अधिक वस्तुओं को परस्पर दृढ़तापूर्वक जोड़ना, भिड़ाना, सटाना, एकत्र करना, जमा करना।
 जुटिका-(सं. स्त्री.) शिक्षा, चुटैया, चुट्टी।
 जुट्टी-(हि. स्त्री.) घास, पुआल आदि का मुट्ठा, अँटिया, सूरन आदि के नये काले, एक ही प्रकार की वस्तुओं का ढेर जो नीचे-ऊपर रखी हों, गड्डी, गाँज; (वि. स्त्री.) संयुक्त, मिली हुई।
 जुठार(ल)ना-(हि. क्रि. स.) उच्छिष्ट करना, किसी खाने-पीने की वस्तु से कुछ खाकर छोड़ देना, जूठा करना, किसी वस्तु में हाथ लगाकर दूसरे के व्यवहार के अयोग्य कर देना।
 जुठिहारा-(हि. पूं.) जूठा खानेवाला मनुष्य।
 जुड़ना-(हि. क्रि. अ.) संयुक्त होना, संभोग करना, एकत्र होना, किसी काम में सहायता देने के लिये तैयार होना, उपलब्ध होना, मिलना, जुटना।
 जुड़पिन्ती-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का रोम जिसमें शरीर भर चकत्ते पड़ जाते हैं और इनमें खुजली होती है।
 जुड़वाँ (हि. वि., पूं.) एक ही साथ उत्पन्न दो बच्चे, यमल, युग्म।
 जुड़वाई-(हि. स्त्री.) देखें 'जोड़वाई'।
 जुड़ाई-(हि. स्त्री.) देखें 'जोड़ाई'।
 जुड़ाना-(हि. क्रि. अ., स.) शीतल होना, ठंडा होना, ठंडा करना, प्रसन्न करना।
 जुड़वाना-(हि. क्रि. स.) शान्त करना,

ठंडा करना, देखें 'जोड़वाना'।
 जुड़ावना-(हि. क्रि. स.) देखें 'जुड़ाना'।
 जुत्त-(हि. वि.) देखें 'युक्त'।
 जुत्तना-(हि. क्रि. अ.) बँल, घोड़े आदि को हल, गाड़ी आदि में रस्सी से नाघना, कोई काम करने में सपरिश्रम लग जाना, लड़ाई में प्रवृत्त होना, जुटना, हल से भूमि का जोता जाना।
 जुत्तवाना-(हि. क्रि. स.) दूसरे से हल चलवाना।
 जुत्ताई-(हि. स्त्री.) देखें 'जोताई', जोतने का काम।
 जुत्ताना-(हि. क्रि. स.) देखें 'जोताना'।
 जुत्तियाना-(हि. क्रि. स.) जूतों से मारना, निरादर करना, अपमानित करना, तिरस्कार करना।
 जुत्तियौवल, जुत्तौवल-(हि. स्त्री.) आपस में जूतों की मार।
 जुत्थ-(हि. पूं.) देखें 'यूथ'।
 जुयौली-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी चिड़िया।
 जुदा-(फा. वि.) अलग, भिन्न, पृथक, निराला।
 जुदाई-(फा. स्त्री.) अलग होने का भाव, त्रिलगाव, वियोग।
 जुद्ध-(हि. पूं.) देखें 'युद्ध', लड़ाई।
 जुहरी-(हि. स्त्री.) ज्वार नामक अन्न।
 जुह्राई-(हि. स्त्री.) चन्द्रिका, चाँदनी, चन्द्रमा।
 जुवराज-(हि. पूं.) देखें 'युवराज'।
 जुवान-(हि. स्त्री.) भाषा, जीभ।
 जुवानी-(हि. वि.) मौखिक।
 जुमना-(हि. पूं.) खेत में खाद देने की एक विधि।
 जुमला-(फा. वि.) कुल, सव।
 जुमा-(अ. पूं.) शुक्रेवार।
 जुमेरात-(अ. स्त्री.) गुरुवार।
 जुमुरी-(हि. स्त्री.) ज्वर की कँपकँपी, ज्वरांश।
 जुमना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'जुड़ना'।
 जुमराना-(हि. पूं.) देखें 'जुमराना'।
 जुरा-(हि. स्त्री.) देखें 'जरा'।
 जुराना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'जुड़ाना'।
 जुराफा-(हि. पूं.) अफ्रीका का एक पशु।
 जुर्म-(अ. पूं.) अपराध, कसूर।
 जुमराना-(अ. पूं.) अपराधी पर न्यायतः लगाया गया अर्थदंड।
 जुल-(हि. पूं.) धोखा, छल, दम-पट्टी।
 जुलना-(हि. क्रि. स.) भटकना।
 जुलवाज-(हि. पूं.) वर्त, छली।
 जुलवाजी-(हि. स्त्री.) वर्तता।
 जुलाई-(अ. स्त्री.) अंगरेजी वर्ष का सातवाँ

महीना।
 जुलाव-(फा. पूं.) दस्त लानेवाली दवा, विरेचन, रेचक औषध।
 जुलाहा-(हि. पूं.) कपड़ा बिननेवाला मुसलमान, तन्तुकार, मूर्ख, एक प्रकार का बरसाती कीड़ा।
 जुलू-(पुं.) दक्षिण अफ्रीका की एक असभ्य जाति।
 जुलूस-(अ. पूं.) बहुते से लोगों का किसी समारोह या उत्सव के सिलसिले में गान-बजाने आदि के साथ-साथ चलना, शोभा-यात्रा, जलूस।
 जुलूक-(हि. पूं.) झुलुक, वैकुण्ठ।
 जुल्फ-(फा. स्त्री.) सिर के लंबे बाल, पट्टा।
 जुल्न-(अ. पूं.) अत्याचार।
 जुल्मी-(अ. वि.) अत्याचारपूर्ण, उत्पीड़न-पूर्ण।
 जुवराज-(हि. पूं.) देखें 'युवराज'।
 जुवा-(हि. पूं.) देखें 'जुआ', घृत।
 जुवारी-(हि. पूं.) देखें 'जुआरी'।
 जुपाण-(सं. पूं.) यज्ञ सम्बन्धी मन्त्र।
 जुष्ट-(सं. पूं.) उच्छिष्ट, जूठन; (वि.) सेवा किया हुआ, प्रसन्न, खुश।
 जुहाना, जुहावना-(हि. क्रि. स.) एकत्रित करना, जुटाना, संचित करना।
 जुहार-(हि. स्त्री.) राजपूतों में प्रचलित एक प्रकार का अभिवादन।
 जुहारना-(हि. क्रि. स.) किसी से कुछ सहायता माँगना।
 जुही-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का बड़ा पौधा जिसमें बरसात में सुगन्धित फूल लगते हैं, जूही।
 जुहु-(सं. पूं.) प्राची दिशा, पूर्व दिशा।
 जुहुराण-(सं. पूं.) चन्द्रमा; (वि.) कपट व्यवहार करनेवाला।
 जुहु-(सं. स्त्री.) देखें 'जुहु', सुवा, यज्ञपात्र।
 जुहुवान्-(सं. पूं.) यज्ञ की अग्नि।
 जू-(हि. स्त्री.) बालों में पड़नेवाला एक छोटा खेदज कीड़ा, ढील।
 जूठ, जूठन-(हि. पूं. वि.) देखें 'जूठ', 'जूठा'।
 जुदन-(हि. पूं.) बन्दर, वानर।
 जूमूह्राँ-(हि. वि.) घृत मनुष्य जो देखने में सीधा-सादा भला आदमी जान पड़।
 जू-(सं. स्त्री.) आकाश, सरस्वती, गमन, गति।
 जू-(हि. अव्य.) एक आदरसूचक शब्द जो ब्रज, राजपूताना, बुंदेलखंड आदि स्थानों में बड़े लोगों के नाम के साथ लगाया जाता है, जी।
 जुआ-(हि. पूं.) हार-जीत का खेल, घृत,

चक्की में लगी हुई वह लकड़ी जिसको पकड़कर यह चलाई जाती है, रथ या गाड़ी के अगले भाग में लगा हुआ वह काठ जो गाड़ी खींचनेवाले बैलों के कंधों पर रहता है।

जूजू-(हि. पुं.) एक कल्पित भयंकर, जीव; (लोग वच्चों को इसके नाम से डराते हैं); हाऊ।

जूझ-(हि. पुं., स्त्री.) युद्ध, झगड़ा, लड़ाई।
जूझना-(हि. क्रि. अ.) लड़ना, रणक्षेत्र में प्राण त्यागना।

जूट-(सं. पुं.) जटा की गाँठ, जूड़ा, लट,
(अं. पुं.) पटुआ, पटसन, इसका बना वस्त्र।

जूटक-(सं. पुं.) जटा, केशवन्ध, लट।

जूटना-(हि. क्रि. स.) जोड़ना।

जूटी-(हि. स्त्री.) जोड़ी।

जूठन-(हि. स्त्री.) उच्छिष्ट भोजन, वह भोजन जिसमें से कुछ अंश किसी ने मुँह लगाकर खाया हो, वह पदार्थ जिसका व्यवहार किसी ने दो-एक बार कर लिया हो, भुक्त पदार्थ।

जूठा-(हि. वि.) उच्छिष्ट, किसी के खाने से बचा हुआ (भाग), भुक्त, भोग करके अपवित्र किया हुआ; (पुं.) उच्छिष्ट भोजन, जूठन।

जूठी-(हि. वि. स्त्री.) देखें 'जूठा'।

जूड़-(हि. वि.) ठंडा, प्रसन्न।

जूड़ा-(हि. पुं.) सिर के वालों की ग्रन्थि, चोटो, कलगो, मूँज आदि का पूला, पगड़ी के पीछे का भाग, घास आदि को लपेटकर बनाई हुई गड्ढरी जिस पर पानी का घड़ा रखा जाता है।

जूड़ी-(हि. स्त्री.) जाड़ा देकर आनेवाला ज्वर।

जूत-(सं. वि.) दीता हुआ, खींचा हुआ दिया हुआ।

जूता-(हि. पुं.) पादत्राण, उपानह, पनही, देखें 'पादुका'; (मुहा.)
-उठाना-चापलूसी करना, नौकरी करना; -चलाना-लड़ाई-झगड़ा करना, मारपीट करना; जूतों से खबर लेना या बात करना-जूते लगाना या मारना।

जूताखोर-(हि. वि.) जो जूते खाया करे, निर्लज्ज।

जूती-(हि. स्त्री.) स्त्रियों के पहनने का जूता।

जूतीगरी-(हि. स्त्री.) जूतों की मार।

जूतीखोर-(हि. वि.) निर्लज्ज, मार और गाली की परवाह न करने वाला।

जूती-पंजर-(हि. स्त्री.) मारपीट, लड़ाई-

झगड़ा, जूतों की मार।

जूय-(हि. पुं.) देखें 'यूय'।

जून-(हि. पुं.) समय, काल, तृण, घास;
(अं. पुं.) अंगरेजी वर्ष का छठा महीना।

जूना-(हि. पुं.) बोझ बाँधने की रस्ती, उसकन।

जूय-(हि. पुं.) द्यूत, जुआ, विवाह में होनेवाली एक प्रथा जिसमें वर और वधू परस्पर जुआ खेलते हैं, पासा।

जूमना-(हि. क्रि. अ.) जुटना, इकट्ठा होना

जूर-(हि. पुं.) संचय, जोड़ाई।

जूरना-(हि. क्रि. स.) देखें 'जोड़ना'।

जूरा-(हि. पुं.) देखें 'जूड़ा'।

जूरी-(हि. स्त्री.) घास, पत्तों या टहनियों का एक में बँधा हुआ पूला, एक प्रकार का पकवान, सूरन आदि के नये कल्ले।

जूष-(सं. पुं.) झोल, कढ़ी, रसा, पकी या चुरी हुई दाल का पानी।

जूस-(हि. पुं.) मूँग, अरहर आदि की पकी हुई दाल का पानी, उवाली हुई वस्तु का रसा, युग्म संख्या; -ताक-(पुं.) छोटे लड़कों के खेलने का एक प्रकार का जुआ जिसमें एक लड़का अपनी मुट्ठी में कुछ कौड़ियों को छिपाकर दूसरे से पूछता है कि ये जूस हैं या ताक। यदि वह ठीक बताता है तो उसकी जीत होती है।

जूसी-(हि. स्त्री.) वह गाढ़ा लसदार रस जो राव से अलग हो जाता है, खाँड़ का पसेव, चोटा।

जूह-(हि. पुं.) देखें 'यूय'।

जूहर-(हि. पुं.) जौहर, राजपूतों की वह प्राचीन प्रथा जिसके अनुसार जब स्त्रियों को निश्चय हो जाता था कि शत्रुओं का दुर्ग में प्रवेश रोकना नहीं जा सकता तो वे चिता पर भस्म हो जाती थीं और पुरुष लोग दुर्ग के वाहर लड़ने के लिए चले जाते थे।

जूही-(हि. स्त्री.) एक पौधा जिसमें चमेली के समान सुगन्धित फूल होते हैं, सेम, मटर आदि की फलियों में लगनेवाला एक प्रकार का कीड़ा।

जूभ-(सं. पुं.) जँमाई, जम्हाई, उवासी, आलस्य।

जूभक-(सं. वि.) जो सर्वदा जँमाई लेता हो; (पुं.) रत्नगों में से एक।

जूभण-(सं. पुं.) जँमाई लेना, जम्भा।

जूभमाण-(सं. वि.) जँमाई लेता हुआ।

जूभा-(सं. स्त्री.) जंग, जँमाई, आलस्य।

जूभित-(सं. वि.) चेष्टा किया हुआ, विकसित।

जँगना-(हि. पुं.) जुगनू।

जेंवना-(हि. क्रि. स.) भक्षण करना, खाना।

जेंवनार-(हि. स्त्री.) देखें 'जेंवनार'।

जेंवना-(हि. क्रि. स.) भोजन कराना, खिलाना।

जे-(हि. सर्व.) "जो" का बहुवचन।

जेइ, जेउ, जेऊ-(हि. सर्व.) जो।

जेट-(हि. स्त्री.) समूह, ढेर, मिट्टी का पात्र, रोटियों की तह।

जेटी-(अं. स्त्री.) वह स्थान जहाँ जहाजों पर माल लादा जाता या उस पर से उतारा जाता है।

जेठ (हि. पुं.) वैशाख और आषाढ़ के बीच का चान्द्रमास, पति का बड़ा भाई, भसुर; (वि.) अग्रज, वय या उन्नम में बड़ा।

जेठरा-(हि. वि.) जेठा, बड़ा।

जेठवा-(हि. पुं.) जेठ में होनेवाली कपास।

जेठा-(हि. वि.) अग्रज, बड़ा, सबसे उत्तम, श्रेष्ठ; -ई-(स्त्री.) जेठापन, वय की बड़ाई।

जेठानी-(हि. स्त्री.) पति के बड़े भाई (जेठ) की स्त्री।

जेठी-(हि. वि.) (एक प्रकार का धान) जो चैत में बोया जाता और जेठ में काटा जाता है; -मधु-(स्त्री.) यष्टि-मधु, मुलेठी।

जेठीत, जेठीता-(हि. पुं.) पति के बड़े भाई (जेठ) का पुत्र।

जेठव्य-(सं. वि.) जेय, जो जीता जा सके।

जेठा-(सं. वि.) जयशील, विजयी, जीतनेवाला; (पुं.) विष्णु; (हि. वि.) जितना।

जेठिक-(हि. वि.) जितना, जिस परिमाण का।

जेते-(हि. वि.) जितने।

जेतो-(हि. वि.) जितना।

जेव-(फा. पुं.) कमीज, कोट आदि में चीजें रखने के लिए लगी हुई थैली, खीसा, पाकिट।

जेवकट-(हि. पुं.) वह जो चुपके से जेव काटकर उसमें का धन चुरा लेता है, पाकिटमार।

जेवकतरा-(हि. पुं.) देखें 'जेवकट'।

जेव-खर्च-(हि. पुं.) निजी खर्च के लिए प्राप्त धन।

जेवघड़ी-(हि. स्त्री.) पाकिट में रखने की घड़ी।

जेवरा-(अं. पुं.) घोड़े या गधे से मिलता-जुलता एक जंगली पशु।

जेवी-(हि. वि.) जो जेय में रखा जा सके।

जेमन—(सं. पुं.) भक्षण, भोजन, जीमना ।
 जेध—(सं. वि.) जेतव्य, जीतने योग्य ।
 जेर—(हि. पुं.) वह झिल्ली जिसमें गर्भ का चालक रहता और पुष्ट होता है, आँवल ।
 जेरी—(हि. स्त्री.) चरवाहे की लाठी जिससे वह कँटीली झाड़ियाँ काटता है, फरही के आकार का एक उपकरण ।
 जेल—(अं. पुं.) वह स्थान जहाँ न्यायतः दंडित अपराधी कैद की अवधि तक बंद रखे जाते हैं कैदखाना, कारा; (मुहा.)
 —काटना—जेल की सजा भुगतना ।
 जेलखाना—(हि. पुं.) जेल ।
 जेली—(हि. स्त्री.) घास-भूसा जमा करने का एक साधन या औजार ।
 जेवड़ी—(हि. स्त्री.) देखें 'जेवरी' ।
 जेवना—(हि. क्रि. स.) देखें 'जीमना' ।
 जेवनार—(हि. स्त्री.) बहुत से मनुष्यों का एक साथ बैठकर भोजन करना, पंगत, भोज, दावत ।
 जेवर—(फ़ा. पुं.) गहना, आभूषण ।
 जेवरा—(हि. पुं.) रस्सा ।
 जेवरात—(फ़ा. पुं.) 'जेवर' का बहु. रूप ।
 जेवरी—(हि. स्त्री.) डोरी, रस्ती ।
 जेठ—(हि. पुं., वि.) जेठ महीना, अग्रज, बड़ा ।
 जेष्ठा—(हि. स्त्री.) देखें 'ज्येष्ठा' ।
 जेहड़—(हि. स्त्री.) पानी से भरे हुए अनेक घड़े जो एक के ऊपर एक रखे रहते हैं ।
 जेहन—(अ. पुं.) बुद्धि, मेवा, दिमाग ।
 जेहनदार—(अ. वि.) बुद्धिमान, मेवावी ।
 जेहर—(हि. पुं.) स्त्रियों के पैर का एक आभूषण, पायजेव ।
 जेहल, जेहलखाना—(हि. पुं.) देखें 'जेल, जेलखाना' ।
 जेहि—(हि. सर्व.) जिसको, जिससे ।
 जै—(हि. स्त्री.) देखें 'जय'; (वि.) जितने, जितनी संख्या में ।
 जैजकार—(हि. स्त्री.) देखें 'जयजयकार' ।
 जैजवती—(हि. स्त्री.) प्रातःकाल में गाई जानेवाली एक रागिनी, जयजयवती ।
 जैडक—(हि. पुं.) जंगी ढोल, विजय-डोल ।
 जैत—(हि. पुं.) अगस्त्य की जाति का एक वृक्ष; (स्त्री.) जीत ।
 जैतपत्र—(हि. पुं.) देखें 'जयपत्र' ।
 जैतवार—(हि. वि.) विजयी, जीतनेवाला ।
 जैती—(हि. स्त्री.) खेत में होनेवाली एक प्रकार की घास ।
 जैतून—(हि. पुं.) एक सदाबहार वृक्ष जिसके फल और उससे निकाला हुआ तेल दवा के काम आता है ।
 जैत्र—(सं. वि.) विजयी, जीतनेवाला;

(पुं.) पारा ।
 जैत्री—(सं. स्त्री.) जातीकोप, जावित्री ।
 जैन—(सं. पुं.) भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध धार्मिक सम्प्रदाय जिसमें अहिंसा परम धर्म माना जाता है । (यह दिगम्बर और श्वेताम्बर दो श्रेणियों में विभक्त है। इस धर्म में ईश्वर नहीं माना जाता); जैनी ।
 जैनी—(हि. पुं.) जैन मतावलम्बी; (वि.) जैनों का ।
 जैनु—(हि. पुं.) भोजन ।
 जैच्य—(सं. वि.) जैन संबन्धी ।
 जैपत्र—(हि. पुं.) देखें 'जयपत्र' ।
 जैपाल—(हि. पुं.) जमालगोटे का वीज ।
 जैमाल—(हि. स्त्री.) देखें 'जयमाला' ।
 जैमाला—(हि. स्त्री.) देखें 'जयमाला' ।
 जैमिनि—(सं. पुं.) कृष्णद्वैपायन के शिष्य, (पूर्व मीमांसा नामक दर्शन इन्हीं के द्वारा प्रणीत है) ।
 जैत्र—(सं. वि.) जीव या जीवन संबन्धी, बृहस्पति संबन्धी ।
 जैसा—(हि. वि.) जिस आकृति या गुण का, जिस प्रकार का, जितना, जिस परिमाण का, सदृश, तुल्य, समान, बराबर; (अव्य.) जिस मात्रा में, जिस तरह; जैसे का तैसा—ज्यों का त्यों; जैसा चाहिये—जैसा उचित हो, उपयुक्त ।
 जैसी—(हि. वि.) 'जैसा' का स्त्रीलिङ्ग रूप ।
 जैसे—(हि. अव्य.) जिस प्रकार या ढंग से; (मुहा.)—तैसे—(अव्य.) किसी न किसी प्रकार से, कठिनाई से ।
 जैसो—(हि. वि.) देखें 'जैसा' ।
 जों—(हि. अव्य.) देखें 'ज्यों' ।
 जोंक—(हि. स्त्री.) पानी का एक कीड़ा जो जीवों के शरीर से चिपककर उनका रक्त चूसता है, सेवार से बनाया हुआ चीनी शोधन का छत्रा, वह मनुष्य जो अपना स्वार्थ निकालने के लिये पिंड न छोड़े ।
 जोंकी—(हि. स्त्री.) दोहरी नोक का काँटा जो दो पटरों को जोड़ने के काम में आता है, देखें 'जोंक' ।
 जोंदरी, जोंधरी—(हि. स्त्री.) छोटी ज्वार, बाजरा ।
 जोंवया—(हि. स्त्री.) चन्द्रिका, चाँदनी ।
 जो—(हि. सर्व.) एक संबंधवाचक सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है; (अव्य.) यदि, अगर ।
 जोअना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'जोवना' ।
 जोइ—(हि. स्त्री.) जाया, पत्नी, स्त्री; (सर्व.) जो ।
 जोइसी—(हि. पुं.) ज्योतिषी ।

जोड—(हि. सर्व.) जो ।
 जोख—(हि. स्त्री.) तौल, जोखने की क्रिया ।
 जोखना—(हि. क्रि. स.) तौलना, जाँचना ।
 जोखा—(हि. पुं.) लेखा, हिसाब-किताब ।
 जोखिम—(हि. स्त्री.) विपत्ति की आशंका, वह काम जिसमें बड़ी आपत्ति आने की संभावना हो; (मुहा.)—उठाना—ऐसा कार्य करना जिसमें कोई बड़ी आपत्ति आने का भय हो; जान जोखिम होना—जान जाने की आशंका होना ।
 जोखों—(हि. स्त्री.) देखें 'जोखिम' ।
 जोगंधर—(हि. पुं.) शत्रु के चलाये हुए अस्त्र से अपना बचाव करने की युक्ति, (विश्वामित्र से श्रीरामचन्द्रजी ने यह युक्ति सीखी थी) ।
 जोग—(हि. पुं.) देखें 'योग'; (हि. अव्य.) के समीप, के वास्ते ।
 जोगड़ा—(हि. पुं.) पाखंडी, ढोंगी ।
 जोगता—(हि. स्त्री.) योग्यता ।
 जोगवना (हि. क्रि. स.) यत्न से रखना, रक्षित रखना, संचित करना, बटोरना, सत्कार करना, जाने देना, पूरा करना ।
 जोगसाधन—(हि. पुं.) देखें 'योग-साधन' ।
 जोगानल—(हि. पुं.) योगानल, योग से उत्पन्न अग्नि ।
 जोगिंद—(हि. पुं.) देखें 'योगींद्र' ।
 जोगिन—(हि. स्त्री.) जोगी की स्त्री, विरक्त स्त्री, पिशाचिनी, रणदेवी, देखें 'योगिनी' ।
 जोगिनिया—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की लाल रंग की ज्वार, एक प्रकार का अगहनियाँ घान ।
 जोगिनी—(हि. स्त्री.) देखें 'योगिनी' ।
 जोगिया—(हि. वि.) जोगी संबन्धी, गैरिक, गरु के रंग में रंगा हुआ, गेरु के रंग का ।
 जोगी—(हि. पुं.) योग करनेवाला, योगी, एक प्रकार के भिक्षुक जो गेरुआ वस्त्र पहिने रहते हैं और सांरंगी वजाकर भिक्षा माँगते हैं ।
 जोगीड़ा—(हि. पुं.) वसन्त ऋतु में गाया जानेवाला एक प्रकार का चलता गाना, जोगीड़ा-गायकों की मंडली ।
 जोगीश्वर—(हि. पुं.) देखें 'योगीश्वर' ।
 जोगू—(हि. वि.) स्तुति करनेवाला ।
 जोगेश्वर—(हि. पुं.) देखें 'योगेश्वर' ।
 जोग्य—(हि. वि.) देखें 'योग्य' ।
 जोटा—(हि. पुं.) जोड़ा, युग्म ।
 जोटिंग—(सं. पुं.) महाव्रती, महादेव ।
 जोटी—(हि. स्त्री.) जोड़ी, बराबरी का साथी ।
 जोड़—(हि. पुं.) वग्यन. युग्म, तुल्य, वस्तु,

गणित में कई संख्याओं का योग, जोड़ने की क्रिया, योगफल, जोड़ने का टुकड़ा, शरीर का सन्निवस्थान, मेल, समानता, बराबरी, जोड़ा, एक प्रकार की दो वस्तुएँ, छल, कपट, संधि-स्थान, बंध स्थान जहाँ दो टुकड़े जुटे हों, किसी कार्य में प्रयुक्त होनेवाली आवश्यक सामग्री, मेल-मिलाप; -तोड़-(पुं.) छल-कपट, दात्र-पेच।

जोड़ती-(हि. स्त्री.) अनेक संख्याओं का योग, जोड़।

जोड़(र)न-(हि. स्त्री.) जामन जो दही जमाने के लिये दूध में डाला जाता है। जोड़ना-(हि. क्रि. स.) टूटे हुए पदार्थ के टुकड़ों को मिलाकर एक करना, संबद्ध करना, दो वस्तुओं को वृद्धता से एक करना, सामग्रियों को क्रम से रखना, एकत्र करना, संग्रह करना, प्रचलित करना, जड़ना, संबंध स्थापित करना, गिनती में शामिल करना।

जोड़वाँ-(हि. ऋ.) एक ही साथ उत्पन्न, एक ही माता के दो बच्चे, यमज, जुड़वाँ।

जोड़वाई-(हि. स्त्री.) जोड़ने की क्रिया, जोड़वाने का शुक।

जोड़वाना-(हि. क्रि. स.) जोड़ने का काम दूसरे से कराना।

जोड़ा-(हि. पुं.) एक तरह के दो पदार्थ, दोनों पैरों के जूते, एक साथ पहिने जाने वाले दो कपड़े, एक आकार की दो वस्तुएँ, स्त्री-पुरुष, नर-मादा, वर-कन्या, जोड़।

जोड़ाई-(हि. स्त्री.) दो या अधिक वस्तुओं को जोड़ने की क्रिया, शुक आदि, दीवार बनाने में ईंट या पत्थर के टुकड़ों को जोड़ने की क्रिया।

जोड़ी-(हि. स्त्री.) एक ही तरह के दो पदार्थ, एक साथ पहिने के वस्त्र, स्त्री-पुरुष, नर-मादा, दो घोड़ों से खींची जानेवाली गाड़ी, मँजीरा, मुगदर का जोड़ा, जोते जानेवाले दो बैल।

जोत-(हि. स्त्री.) बैल, घोड़े आदि जोते जानेवाले पशुओं के गले की रस्सी जिसका एक छोर पशु के गले में बँधा रहता है तथा दूसरा हल या गाड़ी में बँधा होता है, तराजू के पलरों में बँधी हुई रस्सी, जतनी भूमि जितनी किसी थसामी को जोतने-बोने के लिये दी गई हो, जोतने की क्रिया; -दार-(पुं.) वह थसामी जिसको जोतने-बोने के लिए कुछ भूमि मिली हो, काश्तकार।

जोतना-(हि. क्रि. स.) रध, गाड़ी, कील

आदि चलाने के लिये उसमें बैल आदि बाँधना, हल चलाना, किसी को कोई काम करने के लिए लगाना, गाड़ी आदि में बैल आदि नाधकर तैयार करना, खेत में हल चलाना।

जोता-(हि. पुं.) जुए में की वह पतली रस्सी जो बैल की गरदन में फँसाई जाती है, बड़ी धरन, हल जोतनेवाला हलवाहा।

जोताई-(हि. स्त्री.) जोतने का काम, जोतने का पारिश्रमिक।

जोति-(हि. स्त्री.) देखें 'ज्योति', देवी-देवता के सामने जलाने का घी का दीपक।

जोतिक, जोतिसी-(हि. पुं.) ज्योतिषी।

जोतिलिंग-(हि. पुं.) देखें 'ज्योतिलिंग'।

जोती-(हि. स्त्री.) ज्योति, घोड़े की लगाम, तराजू के पल्ले की रस्सी।

जोधन-(हि. स्त्री.) वह रस्सी जिससे जुए की ऊपर-नीचे की लकड़ियाँ बँधी होती हैं।

जोधा-(हि. पुं.) देखें 'योद्धा', लड़नेवाला।

जोना-(हि. क्रि. स.) देखना।

जोनि-(हि. स्त्री.) देखें 'योनि'।

जोन्ह, जोन्हाई-(हि. स्त्री.) चन्द्रिका।

जोप-(हि. पुं.) देखें 'यप'।

जोपै-(हि. अव्य.) यदि, यद्यपि।

जोवन-(वि. पुं.) यौवन, युवावस्था, उभरा स्तन।

जोम-(अ. पु.) गर्व, घमंड, जोश।

जोय-(हि. स्त्री.) जोर, पत्नी; (सर्व.) जो, जिस।

जोयसी-(हि. पुं.) देखें 'ज्योतिषी'।

जोर-(फा. पु.) बल, शक्ति, वेग, तेजी, प्रभाव, प्रभुत्व, सहारा, जबरदस्ती, मेहनत, श्रम; -जुल्म-(पुं.) अन्याय-अत्याचार; (मुहा.) -आजमाना-बल की परीक्षा करना; -करना-(किसी रोग आदि का) बढ़ना; -चलना-बस चलना; -दिखाना-अपनी शक्ति या प्रभुता दिखाना; -देना-आग्रह करना, सहारा देना; -पकड़ना-बढ़ना, बल प्राप्त करना; -बाँवना-बल प्राप्त करना; -मारना-बहुत श्रम या बल लगाना; जोरों से-बहुत आग्रहपूर्वक।

जोरई-(हि. स्त्री.) बहुत भारी लंबी धरन, वीज आदि की वाँस के मजबूत टुकड़ों और मोट रस्सों के सहारे कई मनुष्यों द्वारा बोने की क्रिया; एक प्रकार का हरा कीड़ा जो फसल की

पत्तियों को खा जाता है।

जोरदार-(फा. वि.) जोर या बलवाला, वेगवान्।

जोर-जोर-(फा. पुं.) बहुत अधिक जोर या बल।

जोरना-(हि. क्रि. स.) जोड़ना, मिलाना।

जोरजोरी-(हि. स्त्री.) शक्ति, बलप्रयोग; (अव्य.) बलपूर्वक।

जोरी-(हि. स्त्री.) जोड़ी।

जोरू-(हि. स्त्री.) भार्या, पत्नी, घरवाली, स्त्री।

जोल-(हि. पुं.) झुंड, समूह।

जोलाहल-(हि. स्त्री.) अग्नि, अग्नि की ज्वाला।

जोलाहा-(हि. पुं.) देखें 'जुलाहा'।

जोली-(हि. स्त्री.) जोड़ी, बराबरी।

जोवना-(हि. क्रि. स.) देखना, जोहना, ढूँढना, आसरा देखना।

जोश-(फा. पुं.) उमंग, उत्साह, आवेग, उफान, उवाल; (मुहा.) -में आना-क्रोधित होना।

जोशन-(फा. पुं.) भुजाओं में पहनने का गहना।

जोशोंदा-(फा. पुं.) काढा, क्वाथ।

जोशीला-(हि. वि.) जिसमें खूब जोश हो, आवेगपूर्ण।

जोशी-(हि. पुं.) देखें 'ज्योतिषी'।

जोष-(हि. स्त्री.) स्त्री, नारी; (सं. पुं.) सुख, आराम।

जोषक-(सं. पुं.) सेवक, टहलुआ।

जोषण-(सं. पुं.) आराम, सेवा।

जोषिका-(सं. स्त्री.) कलियों का समूह।

जोषिता-(सं. स्त्री.) स्त्री, नारी।

जोषी-(हि. पुं.) ज्योतिषी, गुजराती ब्राह्मणों की एक जाति।

जोह-(हि. स्त्री.) खोज, प्रतीक्षा, कृपा-दृष्टि।

जोहन-(हि. स्त्री.) प्रतीक्षा, खोज।

जोहना-(हि. क्रि. स.) देखना, ताकना, प्रतीक्षा करना, राह देखना, ढूँढना, पता लगाना।

जोहार-(हि. स्त्री.) अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम, जुहार।

जोहारना-(हि. क्रि. स.) जोहार करना।

जौं-(हि. अव्य.) यदि, जो, ज्यों।

जौकना-(हि. क्रि. अ.) क्रोध में चिल्लाकर बोलना।

जौंची-(हि. स्त्री.) गेहूँ या जी की उपज में होनेवाला एक रोग।

जौराभौरा-(हि. पुं.) महल या गढ़ के

भीतर की वह गुप्त कोठरी जिसमें कोष आदि रहता है; (पुं.) दो वालकों का जोड़ा।
 जौ—(हि.पुं.) गेहूँ की तरह का एक अन्न, यव, एक तौल जो छः राई के बराबर होती है; (अव्य.) जब, यदि।
 जौ-केराई—(हि.स्त्री.) जौ जिसमें मटर मिला हो।
 जौख—(हि.पुं.) सेना, झुंड, जत्या, पक्षि-समूह।
 जौगढवा—(हि.पुं.) एक प्रकार का अगहनिया धान।
 जौचना—(हि.पुं.) चना मिला हुआ जव।
 जौजा—(अ.स्त्री.) जोरू, पत्नी।
 जौतुक—(हि.पुं.) यौतुक, दंहेज।
 जौषिक—(सं.पुं.) खड्ग के बत्तीस हाथों में से एक।
 जौन—(हि.सर्व.) जो; (वि.)जो; (पुं.) यवन।
 जौ पं—(हि.अव्य.) यदि।
 जौवति—(हि.स्त्री.) युवती।
 जौरा—(हि.पुं.) नाऊ-चारी आदि को उनके काम के बदले दिया जानेवाला अन्न।
 जौशन—(फ्रा.पुं.) देखें 'जोशन'।
 जौहर—(हि.पुं.) दुर्गों में राजपूत स्त्रियों के जलने के लिये बनाई हुई चिता, प्रबल शत्रु द्वारा गढ़ के पराजय की संभावना देखकर राजपूत स्त्रियों का जलती हुई चिता में प्रवेश करके एक साथ प्राण देना, आत्म-दाह; (अ.पुं.) रत्न, मणि, गुण, सार; -दार—(वि.) जिसमें जौहर हो, रत्न-जटित।
 जौहरी—(हि.पुं.) रत्न बेचनेवाला, रत्नों की परख करनेवाला, गुणग्राहक, किसी वस्तु के गुणदोष को पहिचाननेवाला, पारखी।
 ज्ञ—(यह संयुक्त अक्षर 'ज' और 'ञ' के योग से बनता है; (सं.पुं., वि.) ज्ञानी, जाननेवाला, ब्रह्मा, पंडित, बुधग्रह, मंगल ग्रह।
 ज्ञक—(सं.वि.) ज्ञाता, जाननेवाला।
 ज्ञपित—(सं.वि.) जाना हुआ, तुष्ट किया हुआ, देखा हुआ, ज्ञात किया हुआ।
 ज्ञप्त—(सं.वि.) ज्ञापित, जाना हुआ।
 ज्ञप्ति—(सं.स्त्री.) वृद्धि, तुष्टि, स्तुति, विज्ञप्ति, जतलाने की क्रिया।
 ज्ञा—(सं.स्त्री.) जानकारी, (कविता में) आज्ञा।

ज्ञात—(सं.वि.) विदित, प्रतीत, अवगत, जाना हुआ।
 ज्ञातक—(सं.वि.) विदित, जाना हुआ।
 ज्ञात-यौवना—(सं.स्त्री.) वह मुग्धा नायिका जिसको अपनी युवावस्था का ज्ञान हो।
 ज्ञातव्य—(सं.वि.) ज्ञेय, जो जाना जा सके।
 ज्ञात-सिद्धांत—(सं.पुं.) वह जो शास्त्रों को अच्छी तरह जानता हो।
 ज्ञातसार—(सं.पुं.) वह जो किसी विषय के तत्व को जानता हो।
 ज्ञाता—(हि.पुं.) जानकार, जाननेवाला।
 ज्ञाति—(सं.पुं.) एक ही गोत्र या वंश का मनुष्य, बान्धव, गोती, सपिंड; (स्त्री.) जाति।
 ज्ञातित्व—(सं.पुं.) ज्ञाति का धर्म, कर्म या व्यवहार।
 ज्ञातिभेद—(सं.पुं.) ज्ञाति से विच्छेद, आपस की फूट।
 ज्ञातृत्व—(सं.पुं.) ज्ञात होना, जानकारी, विज्ञता।
 ज्ञातेय—(सं.पुं.) ज्ञाति, कुल, वंश।
 ज्ञान—(सं.पुं.) बोध, प्रतीति, जानकारी, बुद्धि, तत्त्वज्ञान, यथार्थ ज्ञान, परब्रह्म, विष्णु; -कल्प—(पुं.) शंकराचार्य के एक शिष्य का नाम; -कोड—(पुं.) वेद के तीन विभागों में से एक, इसमें ब्रह्म आदि का विचार है; -कृत—(वि.) बुद्धिपूर्वक या जानबूझकर किया हुआ; -केतु—(पुं.) ज्ञान का चिह्न; -गर्भ—(वि.) ज्ञानयुक्त, जिसमें ज्ञान हो; -गोचर—(वि.) ज्ञानन्द्रियों से जानने योग्य; -चक्षु—(पुं.) पण्डित, विद्वान्; -द—(वि.) ज्ञानदायक, ज्ञान देनेवाला; -दाता—(पुं.) ज्ञानदेनेवाला गुरु; -दुर्बल—(वि.) ज्ञानहीन, मूर्ख; -पति—(पुं.) ज्ञान का उपदेश करनेवाला, गुरु, परमेश्वर; -मद—(पुं.) ज्ञानी होने का गर्व; -मय—(वि.) ज्ञान से पूर्ण; (पुं.) परमेश्वर; -यज्ञ—(पुं.) ब्रह्मज्ञान; -योग—(पुं.) ज्ञान-प्राप्ति का उपाय, ब्रह्मप्राप्ति के लिये निष्ठा विशेष; -वान्—(वि.) ज्ञानी, जिसको ज्ञान ही; -वापी—(स्त्री.) काशी में इस नाम का एक तीर्थ; -वृद्ध—(वि.) जिसको अधिक ज्ञान हो; -साधन—(पुं.) तत्वज्ञान का साधन; -हृत—(वि.) जिसका ज्ञान भ्रष्ट हो गया हो।

ज्ञानापन्न—(सं.वि.) ज्ञान-प्राप्त, ज्ञानी, बुद्धिमान्।
 ज्ञानी—(सं.वि.पुं.) ज्ञानयुक्त, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, जिसको सच्चा ज्ञान हो।
 ज्ञानेन्द्रिय—(सं.पुं.) वे इन्द्रियाँ जिनसे जीवों को विषयों का ज्ञान होता है, ये पाँच हैं—श्रोत्रेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, दर्शनेन्द्रिय, रसना और घ्राणेन्द्रिय।
 ज्ञानोदय—(सं.पुं.) ज्ञान की उत्पत्ति।
 ज्ञापक—(सं.वि.) बोधक, सूचक, जतानेवाला।
 ज्ञापन—(सं.पुं.) जताने या वतलाने का कार्य, सूचना।
 ज्ञापनीय—(सं.वि.) निवेदनीय, जो वतलाने के योग्य हो।
 ज्ञापयिता—(सं.वि.) ज्ञापक।
 ज्ञापित—(सं.वि.) सूचित, वतलाया हुआ।
 ज्ञापित्—(सं.स्त्री.) ज्ञापन, सूचित करने का कार्य।
 ज्ञेय—(सं.वि.) ज्ञातव्य, ज्ञानयोग्य, जिसका जानना योग्य हो, जानने योग्य।
 ज्ञेय-ज्ञ—(सं.वि.) आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञ, सिद्ध।
 ज्ञेयता—(सं.स्त्री.), ज्ञेयत्व—(सं.पुं.) बोध।
 ज्या—(सं.स्त्री.) धनुष की डोरी, चिल्ला, किसी चाप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की रेखा, पृथ्वी, माता, वह लम्ब-रेखा जो किसी चाप के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ाने से मिलती है; -घोष—(पुं.) धनुष की टंकार।
 ज्यादती—(हि.स्त्री.) आधिक्य, उत्पीड़न, अत्याचार, जुल्म।
 ज्यादा—(फ्रा.वि.) अधिक, बहुत।
 ज्याना—(हि.क्रि.सं.) जीवित करना।
 ज्यामिति—(सं.स्त्री.) गणित शास्त्र का वह विभाग जिसके द्वारा भूमि के परिमाण तथा रेखा, कोण, समतल, घन-परिमाण आदि विषयों का निरूपण होता है।
 ज्यायस्—(सं.वि.) वृद्ध, जीर्ण, पुराना, प्रशस्त, बढ़िया।
 ज्यावना—(हि.क्रि.सं.) देखें 'जिलाना'।
 ज्युं—(हि.अव्य.) देखो 'ज्यों'।
 ज्येष्ठ—(सं.वि.) अति वृद्ध, बूढ़ा, बड़ा, उत्तम; (पुं.) जेठ का महीना, परमेश्वर, प्राण।
 ज्येष्ठतम—(सं.वि.पुं.) सब से बड़ा, इन्द्र।
 ज्येष्ठता—(सं.स्त्री.) श्रेष्ठता, बड़प्पन, बड़ाई।
 ज्येष्ठतात—(सं.पुं.) पिता के बड़े भाई।
 ज्येष्ठत्व—(सं.पुं.) ज्येष्ठता, बड़ाई।

ज्येष्ठा—(सं. स्त्री.) अश्विनी आदि सप्ता-
ईस नक्षत्रों में से अठारहवाँ नक्षत्र, (यह
तीन तारों से बना हुआ कुंडल के आकार
का है), छिपकली, बीच की (मध्यमा)
अंगुली, गंगा, वह स्त्री जो औरों की
अपेक्षा पति को अधिक प्यारी हो,
अलक्ष्मी, केले का पेड़; (वि.स्त्री.) वड़ी।
ज्येष्ठाभ्रमलक—(सं.पुं.) निम्ब वृक्ष, नीम का
पेड़।
ज्येष्ठाश्रम—(सं. पुं.) उत्तमाश्रम, गृहस्थ।
ज्यों—(हि. अव्य.) जिस प्रकार, जिस
रूप से, जैसे, जिस ढंग से, जिस क्षण में;
-त्यों—किसी न किसी प्रकार से; -त्यों-
करके—जैसे-तैसे; -ज्यों— जितना;
-ही—जिस क्षण।
ज्योतिःशास्त्र—(सं. पुं.) सूर्यादि ग्रह, काल
आदि का बोध करानेवाला शास्त्र, ज्योतिष।
ज्योतिःशिखा—(सं. स्त्री.) विपम वर्ण-
वृत्तों का मेद।
ज्योति—(सं. स्त्री.) प्रकाश, उजाला,
अग्निशिखा, ज्वाला, सूर्य, नक्षत्र, आँख
की पुतली के बीच का विदु, दृष्टि,
मेथी, विष्णु का एक नाम।
ज्योतिष्क—(हि. पु.) देख 'ज्योतिषी'।
ज्योतिष—(हि. वि.) प्रकाशित।
ज्योतिरिगण—(सं. पुं.) खद्योत, जुगनू।
ज्योतिरीश—(सं. पुं.) सूर्य, परमेश्वर।
ज्योतिर्मय—(सं. वि.) प्रकाशमय, जग-
मगाता हुआ।
ज्योतिर्माली—(सं. पुं.) खद्योत, जुगनू।
ज्योतिर्मुख—(सं. पुं.) श्रीरामजी के एक
अनुचर का नाम।
ज्योतिर्लता—(सं. स्त्री.) मालकंगनी।
ज्योतिर्लंग—(सं. पुं.) शिव, महादेव।
ज्योतिर्लोक—(सं. पुं.) ध्रुवलोक।
ज्योतिर्विद्—(सं. पुं.) ज्योतिष जानने-
वाला, ज्योतिषी।
ज्योतिर्विद्या—(सं. स्त्री.) ज्योतिष।
ज्योतिर्वीज—(सं. पुं.) खद्योत, जुगनू।
ज्योतिर्हस्ता—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी।
ज्योतिश्चक्र—(सं. पुं.) नभमंडल में
स्थित मेघादि बारह राशियों तथा नक्षत्रों
का मंडल।
ज्योतिष—(सं. पुं.) वह विद्या या शास्त्र
जिससे आकाशस्थित ग्रह, नक्षत्र आदि
की गति, परिक्रमा, दूरी आदि का
निश्चय किया जाता है।
ज्योतिषिक—(सं. पुं.) ज्योतिष शास्त्र
का पढ़नेवाला; (वि.) ज्योतिष संबंधी;
ज्योतिषी—(हि. पुं.) ज्योतिष शास्त्र का

जाननेवाला मनुष्य, दैवज्ञ. गणक।
ज्योतिष्क—(सं. पुं.) मेथी, चीता, ग्रह,
तारा, नक्षत्र आदि का समूह।
ज्योतिष्का—(सं. स्त्री.) मालकंगनी।
ज्योतिष्टोम—(सं. पुं.) एक यज्ञ जिसमें
सोलह ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है।
ज्योतिष्णा—(हि. स्त्री.) ज्योत्स्ना।
ज्योतिष्पथ—(सं. पुं.) आकाश, अंतरिक्ष।
ज्योतिष्पुंज—(सं. पुं.) नक्षत्र-समूह।
ज्योतिष्मती—(सं. स्त्री.) एक लता का
नाम, मालकंगनी, योगशास्त्रोक्त सत्व-
प्रधान एक चित्तवृत्ति, रात्रि, एक
वैदिक छन्द का नाम।
ज्योतिष्मान्—(सं. वि.) प्रकाशयुक्त; (पुं.)
सूर्य।
ज्योतीरथ—(सं. पुं.) ध्रुव नक्षत्र।
ज्योतीरस—(सं. पुं.) एक प्रकार का रत्न।
ज्योत्स्ना—(सं. स्त्री.) कौमुदी, चन्द्रमा
का प्रकाश, चाँदनी रात, दुर्गा, प्रभात-
काल; -कोली—(स्त्री.) वरुण के पुत्र
पुष्कर की पत्नी; -प्रिय—(पुं.) चकोर,
चकवा; -वृक्ष—(पुं.) दीपाधार, दीयट।
ज्योत्स्नेश—(सं. पुं.) ज्योत्स्ना के अधि-
पति चन्द्र।
ज्योनार—(हि. स्त्री.) पका हुआ भोजन,
रसोई, भोज।
ज्योरा—(हि. पुं.) खेती तैयार हो जाने पर
कृपक द्वारा गाँव के नाई, घोबी आदि
को दिया जानेवाला अन्न।
ज्योहत, ज्योहर—(हि. पुं.) देखें 'जौहर'।
ज्यौ—(हि. अव्य.) यदि, जो, (यह शब्द
बहुधा कविता में प्रयुक्त होता है।)
ज्योतिष—(सं. वि.) ज्योतिष संबंधी।
ज्योतिषिक—(सं. पुं.) ज्योतिष शास्त्र
जाननेवाला।
ज्योत्स्न—(सं. वि.) दीप्त, जगमगाता हुआ।
ज्योत्स्निका—(सं. स्त्री.) चाँदनी रात।
ज्वर—(सं. पुं.) शरीर की अस्वस्थता में
उत्पन्न गरमी, ताप, बुखार; -घ्न
—(वि.) ज्वरनाशक, ज्वर हटानेवाली।
ज्वरांकुश—(सं. पुं.) ज्वर की एक प्रसिद्ध
औषधि।
ज्वराग्नि—(सं. पुं.) ज्वर रूप अग्नि।
ज्वरार्त—(सं. वि.) ज्वर से पीड़ित।
ज्वरित—(सं. वि.) ज्वर-ग्रस्त, ज्वर से
पीड़ित।
ज्वलन्त—(सं. वि.) देदीप्यमान, प्रकाश-
मान, जलता हुआ, अत्यन्त स्पष्ट।
ज्वल—(सं. पुं.) दीप्ति, ज्वाला, प्रकाश।
ज्वलका—(सं. स्त्री.) ज्वाला, आग की

लपट।

ज्वलन—(सं. वि.) दीप्तिमान, जग-
मगाता हुआ; (पुं.) अग्नि, ज्वाला,
जलन, दाह।
ज्वलनी—(सं. स्त्री.) मुर्वा नामक लता।
ज्वान—(हि. पुं.) देखें 'जवान'।
ज्वार—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की फसल
जिसके दाने मोटे अन्न में गिने जाते
हैं, जुंधरी, समुद्र के जल का उभाड़,
भाटा का उलटा।
ज्वारभाटा—(हि. पुं.) समुद्र के जल का
चढ़ाव-उतार जो चन्द्रमा के आकर्षण
से होता है, (चढ़ाव को ज्वार और उतार
को भाटा कहते हैं।)
ज्वाल—(सं. पुं.) अग्नि-शिखा, अग्नि की
लौ, आँच, दीप्ति, प्रकाश; (वि.)
प्रकाशयुक्त, चमकता हुआ, जलता हुआ;
-माली—(पुं.) सूर्य।
ज्वाला—(सं. स्त्री.) अग्निशिखा, आग की
लपट, ताप, दाह, विष की गरमी।
ज्वालाजिह्व—(सं. पुं.) अग्नि, एक प्रकार
का चित्रक वृक्ष, चीता।
ज्वालादेवी—(सं. स्त्री.) शारदा-पीठ
(पंजाब) में स्थित एक देवी, (इसका
स्थान कांगड़ा जिले के अन्तर्गत देरा
इस्माइल में विद्यमान है।)
ज्वालामुखी—(सं. पुं.) वह पर्वत जिसकी
चोटी में से घुआँ, तप्त राख तथा
अग्नि-तप्त पिघले हुए पदार्थ समय
समय पर अथवा निरन्तर निकलते
रहते हैं।
ज्वालावक्त्र—(सं. पुं.) महादेव, शिव।
ज्वाला हलदी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार
की हलदी जो वस्त्र आदि रंगन के काम
में आती है।
ज्वाली—(सं. पुं.) शिव, महादेव, दीप्ति,
प्रमा, तेज, चमक; (वि.) शिखा-युक्त।
ज्वालेश्वर—(सं. पुं.) एक प्राचीन तीर्थ
विशेष।

झ

झ—संस्कृत और हिन्दी व्यंजन वर्ण
का नवाँ वर्ण तथा च-वर्ण का चौथा
अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान तालु है।
झंकना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'झींखना'।
झंकार—(हि. स्त्री.) झनकार, झींगुर
आदि के बोलने का शब्द।
झंकारना—(हि. क्रि. अ., स.) झनझन शब्द
उत्पन्न करना या होना।

शंक्रुत—(हि. वि.) ध्वनित, शंकार-युक्त ।
 शंक्रुति—(सं. स्त्री.) शंकार ।
 शंखना—(हि. क्रि. अ.) शींखना, पश्चात्ताप करना ।
 शंखाड़—(हि. पुं.) एक प्रकार का घना काँटेदार पौधा, काँटेदार पौधों का समूह, जिस पौधे के पत्ते झड़ गये हों, कूड़ा-करकट का ढेर ।
 शंगा—(हि. पुं.) देखें 'झगा' ।
 शंगुली—(हि. स्त्री.) देखें 'झगा' ।
 शंझ—(हि. पुं.) झाँझ ।
 शंझट—(हि. स्त्री.) व्यर्थ का झगड़ा, प्रपंच, टंटा, बखेड़ा ।
 शंझनाना—(हि. क्रि. अ., स.) शंकारना, झनझन शब्द करना ।
 शंझर—(हि. पुं.) मिट्टी का पात्र, घड़ा ।
 शंझरा—(हि. वि.) झीना, महीन छेदोंवाला ।
 शंझरी—(हि. स्त्री.) वह जाली जिसमें बहुत से छोटे छेद हों, भीत में लगी हुई जालीदार खिड़की, दमचूल्हे की पेंदी की जाली, आटा चालने की चलनी; -दार—(वि.) जालीदार ।
 शंझा—(हि. स्त्री.) वर्षा सहित तीव्र आंधी ।
 शंझार—(हि. पुं.) अग्निशिखा, आग की लपट ।
 शंझावात—(हि. पुं.) देखें 'झंझा' ।
 शंझी—(हि. स्त्री.) फूटी कौड़ी ।
 शंझोड़ना—(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु को तोड़ने या नष्ट करने की इच्छा से हिलाना, झकझोरना, किसी शिकारी पशु का अपने शिकार को दाँतों से पकड़कर मार डालने के निमित्त झटका देना ।
 शंझा—(हि. पुं.) कपड़े का तिकोना या चौकोर टुकड़ा जिसका एक कोना डंडे में लगा रहता है, (इसका व्यवहार संकेत करने, राज्य के प्रतीक के रूप में, उत्सव आदि में होता है), ध्वजा, पताका, फर-हरा; (मुहा.)—खड़ा करना—सैनिकों को इकट्ठा करने के लिये आह्वान करना; -गाड़ना—किसी स्थान में विजय सूचित करने के लिये शंझा फहराना; -झुकाना—राजा, राष्ट्रपति आदि की मृत्यु पर राज्य की ओर से शोक-प्रकाशनार्थ शंझे का झुकया जाना; शंझे तले आना या जमा होना—किसी पक्ष, दल आदि की ओर से लोगों का संग्राम, आंदोलन आदि करने के लिए एकत्र होना ।
 शंझी—(हि. स्त्री.) छोटा शंझा; -दार—(वि.) शंझीवाला, जिसमें शंझी लगी हो ।
 शंझूला—(हि. वि., पुं.) (वह वच्चा)

जिसके सिर पर गर्भ के बाल हों, जिसका मुंडन न हुआ हो, सघन वृक्ष, मुंडन-संस्कार के पहिले का, सघन, जिसमें असंख्य पत्तियाँ हों ।
 शंप—(हि. पुं.) फलाँग, उछाल, कुदान, कूदना, घोड़े के गले का एक प्रकार का गहना ।
 शंपना—(हि. क्रि. अ.) ढकना, छिपना, उछलना, कूदना, आक्रमण करना, टूट पडना, लज्जित होना, शंपना ।
 शंपरिया, शंपरी—(हि. स्त्री.) वह कपड़ा जिससे पालकी ढाँपी जाती है, ओहार ।
 शंपान—(हि. पुं.) एक प्रकार की खटोली जो पहाड़ पर सवारी के काम में आती है, झप्पान ।
 शंपित—(हि. वि.) छिपा हुआ ।
 शंपोला—(हि. पुं.) छोटा झाँपा, टोकरा ।
 शंभ—(हि. पुं.) गुच्छा ।
 शंभकार—(हि. वि.) झाँवरे रंग का, काला ।
 शंभराना—(हि. क्रि. अ.) कुछ काला पड़ जाना, कुम्हलाना, फीका पडना ।
 शंभ्रा—(हि. पुं.) देखें 'झाँवा' ।
 शंभाना—(हि. क्रि. अ.) झाँवर रंग का होना, कुछ काला पड़ जाना, अग्नि का मन्द होना, न्यून होना, घटना, कम होना, कुम्हलाना, मुरझाना; (क्रि. स.) झाँवे से रगड़ा जाना, कुछ काला करना, घटाना, आग बुझाना, मुरझा देना ।
 शंभना—(हि. क्रि. स.) सिर या तलवे में तेल की मालिश करना, किसी को बहकाकर उसका धन छीन लेना ।
 शंभई—(हि. स्त्री.) देखें 'झाँई' ।
 शंभउआ—(हि. पुं.) टोकरा, खाँचा, झावा ।
 शंभक—(हि. स्त्री.) धुन, सनक, झख; (वि.) स्वच्छ, चमकीला ।
 शंभकक—(हि. स्त्री.) व्यर्थ की बकवाद, फजूल झगड़ा, बकबक, किचकिच ।
 शंभकका—(हि. वि.) चमकीला, चमकदार ।
 शंभककाहट—(हि. स्त्री.) जगमगाहट, चमकीलापन ।
 शंभकलेना—(हि. क्रि. स.) झकझोरना ।
 शंभकझोर—(हि. पुं.) झटका, झोंका; (वि.) तेज, जिसमें बहुत झोंका हो ।
 शंभकझोर (ल) ना—(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु को पकड़कर झटका देना ।
 शंभकझोरा—(हि. पुं.) झटका, झोंका ।
 शंभकड़—(हि. पुं.) आँवी ।
 शंभकना—(हि. क्रि. अ.) व्यर्थ की बातें करना, बकबक करना, क्रोध में आकर अनुचित बात बोल बठना ।

शंभकक—(हि. वि.) चमकता हुआ, उज्ज्वल, चमकीला ।
 शंभकार—(सं. पुं.) 'श' वर्ण ।
 शंभकोर—(हि. पुं.) हवा का झोंका या झटका ।
 शंभकोरना—(हि. क्रि. अ.) शंभकोर मारना ।
 शंभकोरा—(हि. पुं.) वायु का वेग, हवा का झोंका ।
 शंभकोल—(हि. पुं.) देखें 'झकोर' ।
 शंभकक—(हि. वि.) चमकीला, जगमगाता हुआ; (स्त्री.) झक ।
 शंभकड़—(हि. पुं.) तीव्र वायु, अंधड़; (वि.) झककी ।
 शंभका—(हि. पुं.) वायु का तीव्र झोंका ।
 शंभकी—(हि. वि.) व्यर्थ की बकवाद करनेवाला, जो अपनी धुन में दूसरे की बात न सुने, सनकी ।
 शंभकना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'शींखना' ।
 शंभख—(हि. स्त्री.) शींखन का भाव या क्रिया; -केतु—(पुं.) कामदेव; -राज—(पुं.) मगर; (मुहा.)—मारना—व्यर्थ समय बिताना ।
 शंभखना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'शींखना' ।
 शंभखी—(हि. स्त्री.) मत्स्य, मछली ।
 शंभगना—(हि. क्रि. अ.) वाद-विवाद करना, झगड़ा करना, लड़ना ।
 शंभगड़ा—(हि. पुं.) लड़ाई, बखेड़ा, टंटा ।
 शंभगड़ालू—(हि. वि.) कलहप्रिय, वात-वात में झगड़ा करनेवाला ।
 शंभगड़ी—(हि. वि. स्त्री.) देखें 'झगड़ालू' ।
 शंभगर—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।
 शंभगरा—(हि. पुं.) देखें 'झगड़ा' ।
 शंभगराऊ—(हि. वि.) झगड़ालू ।
 शंभगरी—(हि. वि. स्त्री.) झगड़ालू ।
 शंभगला, शंभगा—(हि. पुं.) छोटे बच्चों के पहिनने का ढीला वस्त्र ।
 शंभगुली—(हि. स्त्री.) देखें 'झगा' ।
 शंभगुर—(हि. पुं.) कँटिया, कुएँ में गिरी वस्तुएँ निकालने का साधन ।
 शंभझक—(हि. स्त्री.) भय की आशंका से भड़कने की क्रिया, झिझक, चमक, कुछ क्रोध से बोलना, झुंझलाहट, रह-रहकर होनेवाली सनक या आनेवाली दुर्गन्ध, भड़कना, हिचकना, हिचक ।
 शंभझकना—(हि. क्रि. अ.) डर से भड़कना या बोलना, झुंझलाना, खिजलाना, चौंकना ।
 शंभझकाना—(हि. क्रि. स.) झुंझलाना, खिजलाना, चौंकाना, भडकाना, भयभीत करके किसी काम से रोक देना ।
 शंभझकार—(हि. स्त्री.) झझकारने का भाव-या क्रिया ।

झझकारना—(हि.क्रि.स.) डाँटना, डपटना, दुरदुराना, किसी को अपने आगे तुच्छ बना देना ।

झट—(हि.अव्य.) तत्क्षण, तुरंत, उसी समय ।

झटक—(हि.पुं.) देख 'झटका' ।

झटकना—(हि.क्रि.स.) झटका देना, हलका धक्का देना, झोंका देना, बलपूर्वक किसी वस्तु को लेना, ँठना ।

झटका—(हि.पुं.) झोंका, झटकने की क्रिया, इस प्रकार किसी पशु का वध करना कि खड्ग के एक ही आघात से वह मर जावे, कुश्ती की एक युक्ति ।

झटकारना—(हि.क्रि.स.) झटकना, जमी हुई धूल झाड़ने के लिए वस्त्र को झटका देना ।

झटपट—(हि.अव्य.) अति शीघ्र, जल्दी ।

झटा—(सं. स्त्री.) शीघ्रता, भुईंआँवला ।

झटाका—(हि.अव्य.) देखें 'झटपट' ।

झटिका—(हि.स्त्री.) झाड़ी ।

झटिति—(सं.अव्य.) शीघ्र, जल्दी, झटपट, तत्क्षण ।

झड़—(हि.स्त्री.) ताले के भीतर का खटका जो ताली से हटता और ताले को खोलता है, देख 'झड़ी' ।

झड़न—(हि.स्त्री.) झड़ने की क्रिया या भाव, झड़ी हुई वस्तु ।

झड़ना—(हि.क्रि.अ.) कण, बूंद आदि के रूप में गिरना, अधिक संख्या में गिरना, वीर्यपतन होना, झाड़ा जाना ।

झड़प—(हि.स्त्री.) आवेश, लड़ाई, मुठभेड़, क्रोध ।

झड़पना—(हि.क्रि.अ.,स.) वेगसे किसी पर टूट पड़ना, आक्रमण करना, लड़ना, झगड़ना, झटकना, किसी से कुछ छीन लेना ।

झड़पा-झड़पी—(हि.स्त्री.) हाथा-पाई ।

झड़वेरी—(हि.स्त्री.) जंगली वेर ।

झड़वाना—(हि.क्रि.स.) झाड़ने का काम दूसरे से कराना ।

झड़वाई—(हि.स्त्री.) झाड़ने की क्रिया ।

झड़क—(हि.अव्य.) तुरंत ।

झड़का—(हि.पुं.) दो लोगों की परस्पर मुठभेड़; (अव्य.) शीघ्रता से, झटपट ।

झड़झड़—(हि.अव्य.) अखिरत, लगातार ।

झड़ी—(हि.स्त्री.) बूंद-बूंद करके गिरने का कार्य, महीन-महीन बूंदों की वर्षा, निरन्तर वर्षा, ताले के भीतर का खटका जो चाभी से हटता-बढ़ता है, निरन्तर बहुत-सी बातें कहते जाना, वाक्-प्रवाह ।

झणत्कार—(सं.पुं.) झनझन का शब्द ।

झन—(हि.स्त्री.) किसी धातुखंड को

आघात करने से उत्पन्न शब्द ।

झनक—(हि.स्त्री.) धातु आदि के परस्पर टकराने का शब्द, झंकार ।

झनकना—(हि.क्रि.अ.) झनकार का शब्द करना, क्रोध में हाथ-पैर पटकना, झुंझलाना ।

झनक-मनक—(हि.स्त्री.) आभूषण आदि का मधुर शब्द ।

झनकार—(हि.स्त्री.) देख 'झंकार' ।

झनझन—(हि.स्त्री.) झनकार, झनझन शब्द ।

झनझना—(हि.वि.) झनझन शब्द करने-वाला ।

झनझनाना—(हि.क्रि.अ.,स.) झनझन शब्द करना या होना ।

झनझनाहट—(हि.स्त्री.) झंकार, झनझन शब्द, झुनझुनी ।

झनस—(हि.पुं.) चमड़ा मड़ा हुआ एक प्रकार का प्राचीन वाजा ।

झनाझन—(हि.स्त्री.) झंकार, झनझन शब्द; (अव्य.) झनझन शब्द सहित ।

झनाना—(हि.क्रि.अ.) झनझनाना ।

झनाहट—(हि.स्त्री.) झनकार, झनझनाहट ।

झप—(हि.अव्य.) शीघ्रता से, तुरंत, झटपट ।

झपक—(हि.स्त्री.) बहुत थोड़े समय तक पलक गिरना, हलकी नींद, झपकी, लज्जा ।

झपकना—(हि.क्रि.अ.) पलक गिरना, झपटना, वेग से आगे को बढ़ना, ऊँधना, झपकी लेना, सहमना, लज्जित होना ।

झपका—(हि.पुं.) हवा का झोंका, वायु का वेग ।

झपकाना—(हि.क्रि.अ.) पलकों को वन्द करना ।

झपकी—(हि.स्त्री.) अल्प निद्रा, हलकी नींद, आँख झपकने की क्रिया, चकमा, धोखा ।

झपकीहाँ—(हि.वि.) निद्रा से भरा हुआ, झपकता हुआ, मस्त, निदासा, नशे में चूर ।

झपट—(हि.स्त्री.) झपटने की क्रिया या भाव ।

झपटना—(हि.क्रि.अ.) आक्रमण करना, धावा करना, टूट पड़ना; (क्रि.स.) वेग से आगे बढ़कर कोई वस्तु ले लेना ।

झपटाना—(हि.क्रि.स.) आक्रमण कराना, उसकाना ।

झपट्टा—(हि.पुं.) झपटने का भाव; -मार—(वि.) झपटनेवाला (शेर, वाज आदि की भाँति); (मुहा.)-मारना—(वाज, चील आदि का) अपने शिकार पर अचानक टूट पड़ना ।

झपताल—(हि.पुं.) संगीत में पाँच मात्राओं का एक ताल ।

झपना—(हि.क्रि.अ.) पलकों का वन्द होना, झुकना, लज्जित होना ।

झपवाना—(हि.क्रि.स.) झपने का काम दूसरे से कराना ।

झपस—(हि.स्त्री.) गुंजान होने की क्रिया, धनी हरियाली ।

झपसना—(हि.क्रि.अ.) वृक्ष या लता की शाखाओं का सघन रूप से फैलना ।

झपाका—(हि.पुं.) शीघ्रता, जल्दी; (अव्य.) शीघ्रता से ।

झपाटा—(हि.पुं.) झपट, आक्रमण, धावा ।

झपाना—(हि.क्रि.स.) आँखें वन्द करना, मूंदना ।

झपाव—(हि.पुं.) घास काटने का एक प्रकार का यन्त्र ।

झपित—(हि.वि.) झपा हुआ, मुंदा हुआ, लज्जित, नींद में भरी हुई (आँखें), झपकीँहा ।

झपिया—(हि.स्त्री.) स्त्रियों का गले में पहिने का एक प्रकार का आभूषण ।

झपेट—(हि.स्त्री.) देख 'झपट' ।

झपेटना—(हि.क्रि.स.) दबोचना, झपट कर दबा लेना ।

झपेटा—(हि.पुं.) चपेट, भूत-प्रेत की वाधा ।

झपोला—(हि.पुं.) देख 'झँपोला' ।

झप्पड़—(हि.पुं.) झापड़, यप्पड़ ।

झप्पान—(हि.पुं.) चार आदमियों द्वारा ढोने की एक प्रकार की पहाड़ी डोली ।

झप्पानी—(हि.पुं.) झप्पान या झंपान ढोनेवाला ।

झवझवी—(हि.स्त्री.) कान में पहिने का एक प्रकार का आभूषण ।

झवड़ा—(हि.वि.) देखें 'झवरा' ।

झवरा, झवरीला—(हि.वि.) जिसके बाल बिखरे हुए तथा लंबे हों ।

झवरैरा—(हि.वि.) झवरीला, बिखरे हुए (बाल) ।

झवा—(हि.पुं.) देखें 'झव्वा' ।

झवार—(हि.स्त्री.) लड़ाई, झगड़ा, बखेड़ा, टंटा ।

झबिया—(हि.स्त्री.) छोटा झव्वा या फुंदना ।

झव्वा—(हि.पुं.) एक में बँधे हुए रेशम, कलाबत्तू, सूत, धुंधरू आदि का गुच्छा, एक में गुंथी हुई अनेक वस्तुओं का समूह, गुच्छा ।

झमक—(हि.स्त्री.) चमक, प्रकाश, उजेल, झमझम शब्द, ठसक की चाल ।

झमकना—(हि.क्रि.अ.) झमझम शब्द

करना, दमकना, प्रज्वलित होना, प्रकाश करना, युद्ध में अस्त्रों का चमकना, गहनों को झंझक करते हुए नाचना, रह-रहकर चमकना, झनकार होना।

झमकाना—(हि.क्रि.स.) युद्ध में अस्त्रों को चमकाना, चमक उत्पन्न करना, चलते समय गहनों को बजाना या चमकाना।

झमकारा—(हि. वि.) झमाझम बरसनेवाला (वादल)।

झमकीला—(हि. वि.) चंचल।

झमझम—(हि.स्त्री.) घुंघरू आदि के बजने का शब्द, वर्षा होने का शब्द, छमक-छम; (वि.) प्रकाशयुक्त, जगमगाता हुआ; (अव्य.) झम-झम के साथ।

झमझमाना—(हि. क्रि. अ., स.) चमकाना, जगमगाना, झम-झम शब्द होना।

झमझमाहट—(हि. स्त्री.) झमझम शब्द होने की क्रिया, चमकने का भाव।

झमना—(हि.क्रि.अ.) नम्र होना, झुकना, दबना।

झमाका—(हि. पुं.) पानी बरसने अथवा आभूषणों के बजने का शब्द, ठसक, मटक।

झमाझम—(हि.स्त्री.) घुंघरू आदि के बजने का शब्द; (अव्य.) झमाझम शब्द सहित।

झमाट—(हि. पुं.) एक में गुंथे हुए अनेक झाड़, झुरमुट।

झमाना—(हि.क्रि.अ.,स.) ढकना, छाना, घेरना, झंजाना।

झमेला—(हि.पुं.) झंझट, झगड़ा, मीड़-माड़।

झमेलिया—(हि. पुं.) झगड़ालू, झगड़ा करनेवाला।

झर—(सं. पुं.) निर्झर, पानी गिरने का स्थान, पहाड़ से निकला हुआ झरना, सोता; (हि. स्त्री.) झूंड, समूह, वेग, पानी की झड़ी, लगातार वृष्टि, ज्वाला, लपट, ताले के भीतर का वह खटका जो ताली से खुलता है।

झरकना—(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'झलकना, झिड़कना'।

झरझर—(हि.स्त्री.,अव्य.) वह शब्द जो पानी बरसने या वायु चलने से उत्पन्न होता है।

झरझराना—(हि.क्रि.अ., स.) किसी पदार्थ का (को) झर-झर शब्द करते हुए गिर (रा) ना।

झरन—(हि. स्त्री.) झरने की क्रिया, झड़ना, वह जो झरा हो।

झरना—(हि. पुं.) जल-प्रवाह, सोता, लोहे आदि की बनी हुई बड़ी चलनी या छलनी एक प्रकार की कलछी जिसका अगला भाग चिपटा तथा छिद्रपूर्ण होता

है, पीना; (वि.) झरनेवाला, जो झरता हो; (क्रि. अ.) सोते का ऊँचे स्थान से गिरना, झड़ना।

झरनि—(हि. स्त्री.) देखें 'झरन'।

झरप—(हि. स्त्री.) झकोरा, वेग, झोंका, टेक, चाँड़, परदा, झड़प।

झरपना—(हि.क्रि.अ.) झोंका देना, झड़पना।

झरबेर, **झरबेरी**—(हि. स्त्री.) जंगली बेर।

झरसना—(हि.क्रि.अ.,स.) झूलसना, झुलसाना।

झरहराना—(हि.क्रि.अ.,स.) हवा के झोंके से पत्तों का शब्द करना, झटकना, झाड़ना।

झरहरा—(हि. वि.) देखें 'झंझरा'।

झरा—(हि. पुं.) पानी से भरे हुए खेत में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का धान।

झराझर—(हि. अव्य.) झरझर शब्द करते हुए, लगातार।

झरापना—(हि. क्रि. स.) झड़पना।

झरि—(हि. स्त्री.) देखें 'झड़ी'।

झरी—(सं. स्त्री.) स्रोत, पानी का झरना; (हि. स्त्री.) दरार, वह कर जो किसी हाट या बाजार में सौदा बेचने वालों से लिया जाता है, झड़ी।

झरआ—(हि. पुं.) एक प्रकार की घास।

झरोखा—(हि.पुं.) भीत में बनी हुई जालीदार छोटी खिड़की या मोखा, गवाक्ष।

झर्रर—(सं. पुं.) डिडिम, डमरू, बड़ा ढोल, लोहे का झरना, झाँझ।

झर्ररक—(सं. पुं.) कलियुग।

झर्ररा—(सं. स्त्री.) बेइया, रंडी, पानी का शब्द; (हि. स्त्री.) देखें 'झरझर'।

झर्ररावती—(सं. स्त्री.) गंगा, कटसरैया।

झर्ररिका—(सं. स्त्री.) तारादेवी।

झर्ररी—(सं. स्त्री.) झाँझ नामक बाजा।

झर्ररीक—(सं.पुं.) शरीर, देह, देश, चित्र।

झर्रा—(हि. पुं.) बया पक्षी।

झल—(हि.पुं.) दाह, जलन, उत्कट इच्छा, संभोग की कामना, क्रोध, रोष, समूह, झुंड।

झलक—(हि. स्त्री.) आभा, च्युति, चमक, दमक, आकृति का आभास, प्रतिबिम्ब; -दार—(वि.) जिससे चमक-दमक हो, चमकीला।

झलकना—(हि.क्रि.अ.) चमकना, थोड़ा-सा प्रगट होना।

झलकनि—(हि. स्त्री.) देखें 'झलक'।

झलका—(हि. पुं.) शरीर पर पड़ा हुआ छाला, फफोला।

झलकाना—(हि. क्रि. अ., स.) चमकना, आभास देना, दिखलाना, दरसाना।

झलकी—(हि. स्त्री.) देखें 'झलक'।

झलझल—(हि. स्त्री.) चमक-दमक;

(अव्य.) रह-रहकर होनेवाली चमक के साथ।

झलझलाना—(हि. क्रि. अ., स.) चमकना, चमकमाना, झललाना।

झलझलाहट—(हि. स्त्री.) चमक-दमक, झललाने का भाव।

झलना—(हि.क्रि.अ., स.) किसी पदार्थ से हवा करने के लिये पंखा डुलाना, इधर-उधर हिलना, गर्व करना, किसी छेद को राँगे से भरना, देखें 'झिलना'।

झलमल—(हि. पुं.) अल्प प्रकाश, चमक, देखें 'झलझल'।

झलमला—(हि. वि.) चमकीला, चमकता हुआ।

झलमलाना—(हि.क्रि. अ., स.) चमकमाना, रह-रहकर चमकना, फलते हुए प्रकाश का हिलना-डोलना, ज्योति का अस्थिर होना।

झलरा—(हि.पुं.) एक प्रकार का पकवान।

झलराना—(हि. क्रि.अ.) फलकर छा जाना।

झलरी—(हि. स्त्री.) हुडुक नाम का बाजा, झाँझ।

झलवाना—(हि.क्रि.स.) झलने या झालने का काम किसी दूसरे से कराना।

झलहाया—(हि.पुं.) ईर्ष्या करनेवाला मनुष्य।

झला—(सं. स्त्री.) कन्या, बेटा, वृष, धाम।

झलाझल—(हि. वि.,अव्य.) खूब चमकता हुआ, खूब झलमलाना हुआ, चमाचम।

झलाझली—(हि. वि.) चमकीला, चमकदार

झलाबोर—(हि.पुं.) साड़ी, डुपट्टे आदि का कलांबत्तू का बुना चौड़ा अंचल, कारचोवी, एक प्रकार की अग्नि-क्रीड़ा, चमक-दमक; (वि.) चमकीला।

झलामल—(हि. स्त्री.) चमक-दमक; (वि.) चमकीला।

झलि—(सं. स्त्री.) सुपारी।

झल्ल—(सं. पुं.) एक वर्णसंकर जाति, विदूषक, माँड़, हुडुक नाम का बाजा, सनक, पागलपन।

झल्लकंठ—(सं. पुं.) पारावत, कबूतर।

झल्लक—(सं. पुं.) काँसे आदि धातु का बना हुआ करताल, झाल।

झल्लरा—(सं. स्त्री.) हुडुक नाम का बाजा, झाँझ, छोटे बच्चों के बाल, स्वेद, पसीना।

झल्लरी—(सं. स्त्री.) देखें 'झलरा'।

झल्ला—(हि. पुं.) बड़ी टोकरी, खाँचा, वृष्टि, वर्षा, बीछार; (वि.) जो बहुत गाढ़ा न हो, सनकी, पागल।

झल्लाना—(हि. क्रि. अ., स.) झुंझलाना, खिजलाना, चिढाना।

श्रल्लिका—(हि. स्त्री.) शरीर पोंछने का अंगोछा, तौलिया, शरीर की मूँल जो उवटन लगाने से निकले, झिल्ली, दीप्ति ।
 झल्ली—(सं. स्त्री.) हुडुका, झाँझ ।
 झवर—(हि. स्त्री.) झगड़ा ।
 झप—(सं. पुं.) मत्स्य, मीन, मछली, मगर, मीनराशि, ग्रीष्म, ताप, गरमी, देखें 'झख';
 -केतु—(पुं.) मदन, कामदेव; -निकेत—
 (पुं.) जलाशय, समुद्र; -राज—(पुं.) मकर, मगर ।
 झषांक—(सं. पुं.) कन्दर्प, कामदेव ।
 झषाशन—(सं. पुं.) शिशुमार, सुँस ।
 झसना—(हि. क्रि. स.) देखें 'झसना' ।
 झहनना—(हि. क्रि. अ.) झनझन शब्द होना, रोंगटे खड़े होना, सघाटे में आना ।
 झहनाना—(हि. क्रि. अ., स.) झनझन करना, झनकारना ।
 झहरना—(हि. क्रि. अ., स.) झरझर शब्द करना, शिथिल होना, ढीला पड़ना, झिड़कना, झल्लाना ।
 झहराना—(हि. क्रि. अ., स.) झल्लाना, खिजलाना, शिथिल होकर या झल्लाते हुए गिरना, हिलाना, झकझोरना ।
 झाँई—(हि. स्त्री.) प्रतिविम्ब, परछाईं, छाया, छल, अन्धकार, प्रतिध्वनि, मनुष्य के मुख पर पड़नेवाले हलके काले घबड़े; (मुहा.)—आना—सिर चकराने के कारण आँखों के सामने अँवैरा छा जाना; -बताना—छलना, धोखा देना ।
 झाँक—(हि. स्त्री.) झाँकने की क्रिया या भाव ।
 झाँकना—(हि. क्रि. अ.) आड़ से देखना, झवर-उधर देखना ।
 झाँकनी—(हि. स्त्री.) देखें 'झाँकी' ।
 झाँका—(हि. पुं.) जालीदार खाँचा, झरोखा ।
 झाँकी—(हि. स्त्री.) झाँकने की क्रिया, झलक, क्षणिक और अपूर्ण दर्शन, झरोखा, खिडकी ।
 झाँख—(हि. पुं.) एक प्रकार का बड़ा जंगली हरिन ।
 झाँखना—(हि. क्रि. स.) देखें 'झाँखना, झाँकना' ।
 झाँखर—(हि. पुं.) झंखाड़, कँटीली झाड़ियों का झुरमुट ।
 झांगला—(हि. वि.) ढीलाढाला (पोशाक) ।
 झांगा—(हि. पुं.) देखें 'झगा' ।
 झासि—(हि. स्त्री.) काँसे के ढले हुए दो गोलाकार टुकड़ों का वाजा जो मजीरे में बड़ा होता है, भ्रौव, दुप्टता, पाजीपन, चित्त का धुरा आवेग, अड़ियलपन,

झाँझन ।
 झाँझड़ी, झाँझन—(हि. स्त्री.) पैर में पहिन्ने का घुँघरूदार गहना, पैजनी, पायल ।
 झाँझर—(हि. वि.) जर्जर, पुराना, छिन्न-भिन्न, छिद्रमय; (स्त्री.) पैजनी, झाँझन ।
 झाँझरी—(हि. स्त्री.) झाँझन नामक आभूषण ।
 झाँझा—(हि. पुं.) एक प्रकार का फसल में लगनेवाला कीड़ा, झंझट, बखेड़ा, झाँझ ।
 झाँझिया—(हि. पुं.) झाँझ बजानेवाला ।
 झाँट—(हि. स्त्री.) पुरुष या स्त्री के मूत्रेन्द्रिय पर के बाल, पशम, अति क्षुद्र पदार्थ ।
 झाँप—(हि. स्त्री.) किसी आधान को ढकने की वस्तु, नींद, झपकी, पर्दा, चिक; (पुं.) उछल-कूद ।
 झाँपना—(हि. क्रि. स.) आवरण डालना, ढकना, पकड़कर दबा लेना, लज्जित करना ।
 झाँपी—(हि. स्त्री.) ढकने की डलिया या टोकरी, मूँज की बनी हुई पिटारी ।
 झाँवना—(हि. क्रि. स.) झाँवे से रगड़कर साफ करना ।
 झाँवर—(हि. स्त्री.) नीची भूमि जहाँ पानी रकता हो; (वि.) मलिन, मैला, मुरझाया हुआ, कुम्हलाया हुआ, शिथिल, मन्द, श्याम वर्ण का ।
 झाँवली—(हि. स्त्री.) झलक, आँख की कनखी ।
 झाँवा—(हि. पुं.) इंट जो अधिक पकने के कारण काली हो गई हो जिससे रगड़कर मैल छोड़ाई जाती है ।
 झाँसना—(हि. क्रि. स.) धोखा देना, ठगना, स्त्री को व्यभिचार में प्रवृत्त करना ।
 झाँसा—(हि. पुं.) वहकान का कार्य, छल, धोखाधड़ी; -पट्टी—(स्त्री.) धोखा-वड़ी ।
 झाँसिया—(हि. पुं.) धोखा देनेवाला, धोखेवाज ।
 झाँसी—(हि. पुं.) उत्तर प्रदेश का एक जिला, एक प्रकार का कीड़ा ।
 झाँसू—(हि. पुं.) छल करनेवाला ।
 झा—(हि. पुं.) मथिल ब्राह्मणों की एक उपाधि ।
 झाई—(हि. स्त्री.) देखें 'झाँई' ।
 झाऊ—(हि. पुं.) एक प्रकार का छोटा झाड़, एक वृक्ष ।
 झाग—(हि. पुं.) जल आदि का फेन, गाज ।
 झागड़—(हि. पुं.) झगड़ा, तकरार ।
 झागना—(हि. क्रि. अ.) फेन उत्पन्न होना ।
 झाट—(सं. पुं.) लतागूह, ऐसा स्थान जो

बनी लताओं से घिरा हो, झाड़ी ।
 झाटल—(सं. पुं.) मोखा नामक वृक्ष ।
 झाड़—(हि. पुं.) छोटा वृक्ष जिसकी डालियाँ जड़ के पास से निकलकर चारों ओर फैली हुई होती हैं, प्रकाश करने का काँच का आधान जो छत से लटकाया जाता है, झाड़-फूंक, झाड़ने या फटकारने की क्रिया, डाँट-डपट, फटकार ।
 झाड़-खंड—(हि. पुं.) जंगल, वन ।
 झाड़-झंखाड़—(हि. पुं.) अनेक काँटेदार झाड़ियाँ, व्यर्थ या बेकार वस्तुओं का समूह ।
 झाड़दार—(हि. वि.) काँटेदार, कँटीला, घना, सघन; (पुं.) बड़े-बड़े वेल-बूटों का कशीदा ।
 झाड़न—(हि. स्त्री.) धूर इत्यादि झाड़ने का कपड़ा, झाड़ू देने पर निकली हुई धूल ।
 झाड़ना—(हि. क्रि. स.) धूल इत्यादि साफ करना, झटकारना, झारना, फटकारना, झटके से किसी वस्तु को गिराना, छल-वल से किसी का धन ले लेना, झटकना, भूत-प्रेत दूर करने के लिये मन्त्र पढ़कर फूंकना, डाँटना, डपटना, चिढ़कर किसी को दुर्वचन कहना ।
 झाड़-फानस—(हि. पुं.) शीशे के बने प्रकाश और सजावट के सामान ।
 झाड़-फूंक—(हि. स्त्री.) मन्त्र पढ़कर भूत-प्रेत दूर करने की क्रिया ।
 झाड़-बुहार—(हि. स्त्री.) परिष्कार, शुद्धता, सफाई ।
 झाड़ा—(हि. पुं.) मन्त्र आदि का उच्चारण, झाड़-फूंक, अनुसन्धान, विष्ठा, मैला, पुरीष ।
 झाड़ी—(हि. स्त्री.) छोटा झाड़, पीधा, अनेक छोटे पेड़ों का समूह, सूअर के वालों की कूँची; वरौँछी; -दार—(वि.) झाड़ी के समान, काँटेदार ।
 झाड़ू—(हि. पुं.) कूँचा, बुहारी, पुच्छल तारा, केतु; (मुहा.)—फिरना—सब कुछ नष्ट हो जाना, कुछ न रहना; -मारना—तिरस्कार करना; -बरदार—(पुं.) झाड़ देनेवाला मनुष्य, चमार, भंगी, मेहतर ।
 झापड़—(हि. पुं.) थप्पड़, तमाचा ।
 झावर—(हि. पुं.) दलदल भूमि ।
 झावा—(हि. पुं.) टोकरी, खाँचा, देखें 'झवा' ।
 झावी—(हि. स्त्री.) छोटा झावा, टोकरी ।
 शाम—(हि. पुं.) झवा, गुच्छा, डाँट-डपट, घुड़की, छल, कपट, धोखा, कुएँ की मिट्टी खोदने का यंत्र ।

शामक—(सं. पुं.) जली हुई ईंट, झाँवा।
शामर—(हि. पुं.) एक प्रकार का पर का गहना, टेकुआ रगड़न की सिल्ली।
शामी—(हि. पुं.) छली, कपटी।
शायँ-शायँ—(हि. स्त्री.) झनझन शब्द, झनकार, सुनसान स्थान में वायु का शब्द; (पुं.)—करना—सूना या डरा-वना लगना।
शार—(हि. वि.) एकमात्र, केवल, कुल, सम्पूर्ण, सब, समूह, झुण्ड; (स्त्री.) ईर्ष्या, डाह, जलन, दाह, ज्वाला, अग्निशिखा, लपट, झाल, चरपराहट; (पुं.) झरना, पीना।
शारखंड—(हि. पुं.) वैद्यनाथ से जगन्नाथ पुरी तक फैला हुआ एक जंगल; देखें 'शारखंड'।
शारझरस—(हि. स्त्री.) उष्णता, गरमी।
शारन—(हि. स्त्री.) देखें 'शारन'।
शारना—(हि. क्रि. स.) वालों को सँवारने और मूल निकालने के लिये कंधी करना, पृथक् करना, अलग करना, देखें 'शारना'।
शारफूक—(हि. स्त्री.) देखें 'शारफूक'।
शारा—(हि. पुं.) अन्न को स्वच्छ करने की चलनी, झरना।
शारी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की टोटी लगी हुई लोटिया।
शारू—(हि. पुं., स्त्री.) देखें 'शारू'।
शारर—(सं. वि.) झरझर शब्द करनेवाला।
शाल—(हि. पुं.) काँसे का बना हुआ ताल देने का वाजा, झाँझ; (स्त्री.) खाँचा, टोकरी, निरन्तर वृष्टि, तीक्ष्णता, चरपराहट, झालने की क्रिया, तरंग, लहर, कामेच्छा; (वि.) देखें 'शार'।
शालड़—(हि. स्त्री.) पूजा आदि के समय बजाया जानेवाला घड़ियाल, झालर।
शालना—(हि. क्रि. स.) धानु की वस्तुओं को टाँका देकर जोड़ना।
शालर—(हि. स्त्री.) किसी वस्तु के छोर पर लटकता हुआ किनारा जो शोभा के लिये लगाया जाता है, इस आकार की कोई वस्तु, किनारा, छोर, झाँझ; -दार—(वि.) जिसमें शालर लगी हो।
शालरना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'शालरना'।
शाला—(हि. पुं.) मकड़ी का जाल या जाला।
शालि—(हि. स्त्री.) वर्षा की झड़ी; एक प्रकार की काँजी।
शार्व-शार्व—(हि. पुं.) कलह, वकवाद।
शारव—(सं. पुं.) शाल नामक पौधा।
शारगन—(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष जिसके पत्तों से लाल रंग बनता है।

शारगवा—(हि. पुं.) एक प्रकार की छोटी मछली, शींगा।
शारगाक—(सं. पुं.) कर्कटी, ककड़ी।
शारगिनी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का बड़ा जंगली वृक्ष।
शारगुली—(हि. स्त्री.) देखें 'शारग'।
शारगिया—(हि. स्त्री.) अनेक छोटे-छोटे छिद्रोंवाला घड़ा जिसमें दीपक रखकर लड़कियाँ कुवार के महीने में घुमाती हैं।
शारगो (नी) टी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की रागिनी का नाम।
शारटिका, शारटी—(सं. स्त्री.) कटसरैया।
शारटीश—(सं. पुं.) शिव, महादेव।
शारकना—(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'शारकना'।
शारकार—(हि. स्त्री.) देखें 'शारकार'।
शारकारना—(हि. क्रि. स.) शटकना, शारकारना।
शारसित—(हि. स्त्री.) एक रागिनी का नाम।
शारडकना—(हि. क्रि. स.) तिरस्कार अथवा अवज्ञापूर्वक विगड़कर कोई बात कहना, शटकना, किसी वस्तु को दूर फेंक देना।
शारडकी—(हि. स्त्री.) शारडककर कही हुई बात, डाँट-फटकार।
शारडझिड़ाना—(हि. क्रि. अ., स.) कटु वचन कहना, चिड़चिड़ावना, भला-बुरा कहना।
शारडझिड़ानाहट—(हि. स्त्री.) शारडझिड़ाने की क्रिया।
शारनवा—(हि. पुं.) महीन चावल का धान।
शारपना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'शारपना', लज्जित होना।
शारपाता—(हि. क्रि. स.) लज्जित करना, लजवाना।
शारकना—(हि. क्रि. स.) डपटना, फेंक देना।
शाररशर—(हि. अव्य.) धीरे-धीरे, शार-शर शब्द सहित।
शाररशरा, शाररहर—(हि. वि.) बहुत पतला या बारीक (वस्त्र), झँझरा, शीना।
शाररिका, शाररीका, शाररी—(सं. स्त्री.) झिल्ली, शींगुर।
शाररना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'शाररना'; (पुं.) छिद्र, छेद।
शाररी—(हि. स्त्री.) छोटा छेद, दर्राज, कुएँ में का सोता जिसमें नीचे से पानी आता है, नाली आदि में पानी रोकने के लिये बनाया हुआ गड्ढा।
शाररंगा—(हि. पुं., वि.) टूटी हुई खटिया या उसका बाध, (वह खटिया) जिसकी नुनावट ढीली पड़ गई हो।
शाररना—(हि. क्रि. अ.) बलपूर्वक प्रवेश करना, सन्तुष्ट होना, अघा जाना, सहन

होना, झेला जाना।
शाररम—(हि. स्त्री.) लोहे का जालीदार टोप या शिरस्त्राण; -टोप—(पुं.) देखें 'शाररम'।
शाररमा—(हि. पुं.) एक प्रकार का धान।
शाररमिल—(हि. स्त्री.) शाररमिलाता हुआ प्रकाश, प्रकाश की चंचलता, रह-रह कर प्रकाश की घटने-बढ़ने की क्रिया, एक प्रकार का सुन्दर महीन वस्त्र, शाररम; (वि.) रह-रहकर चमकने-वाला।
शाररमिला—(हि. वि.) जो सघन न हो, छिद्रयुक्त, जिसमें अनेक छोटे-छोटे छिद्र हों, झँझरा, शीना, रह-रहकर हिलता हुआ प्रकाश देनेवाला, चमकता हुआ, जो बहुत स्पष्ट न हो।
शाररमिलाना—(हि. क्रि. अ.) रह-रहकर चमकना, जुगजुगाना, प्रकाश का हिलना।
शाररमिलाहट—(हि. स्त्री.) शाररमिलाने की क्रिया।
शाररमिली—(हि. स्त्री.) अनेक पतली आड़ी पटरियों का ढाँचा जो किवाड़ों आदि में प्रकाश आने, धूल आदि रोकने के लिये जड़ा रहता है, चिक, चिलमन, कान म पहिनने का एक प्रकार का आभूषण।
शाररवाना—(हि. क्रि. स.) झेलने का काम दूसरे से कराना, झेलने को वाच्य करना।
शाररल—(सं. पुं.) नील की जाति का एक प्रकार का पौधा।
शाररलड़—(हि. वि.) पतला और झँझरा।
शाररलि—(सं. पुं.) एक प्रकार का वाजा।
शाररलिका—(सं. स्त्री.) कीट विशेष, शींगुर।
शाररली—(हि. स्त्री.) किसी वस्तु की पतली तह, महीन झाल, आँख का जाला, शींगुर, उवटने की मूल।
शाररलीकंठ—(सं. पुं.) पालतू कबूतर।
शाररलीक—(सं. पुं.) शाररली, शींगुर।
शाररलीदार—(हि. वि.) जिसके ऊपर की तह बहुत पतली हो, जिस पर शाररली हो।
शाररक—(हि. स्त्री.) देखें 'शाररका'।
शाररकना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'शाररकना'।
शाररका—(हि. पुं.) अन्न का वह परिमाण जो पीसने के लिये चक्की में एक बार डाला जाता है।
शाररख—(हि. स्त्री.) शाररखने का भाव, कुढ़न।
शाररखना—(हि. क्रि. अ.) दुखी होकर पछताना और चिढ़ना, अपनी विपत्ति का हाल सुनाना, खीजना; (पुं.) दुःख का वर्णन, दुखड़ा।
शाररगट—(हि. पुं.) कर्णधार, मल्लाह, केवट।

श्रीगा—(हि. पुं.) एक प्रकार की मछली, एक प्रकार के धान का नाम ।
 श्रीगुर—(हि. पुं.) एक प्रकार का छोटा कोड़ा जो मिट्टी की दीवारों में रहता है और बरसात में झन-झन शब्द करता है, झिल्ली ।
 श्रीसी—(हि. स्त्री.) छोटी बूंदों की वर्षा, फूही, फुहार ।
 श्रीना—(हि. वि.) बहुत महीन (वस्त्र), छिद्रयुक्त, जिसमें बहुत से छेद हों, झंझरा, दुबल, दुबला, धीमा, मन्द ।
 श्रीमना—(हि. क्रि. अ.) झूमना ।
 श्रीमर—(हि. पुं.) धीवर ।
 श्रील—(हि. स्त्री.) चारों ओर भूमि से घिरा हुआ बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय, बहुत बड़ा तालाब ।
 श्रीलर—(हि. पुं.) छोटी झील ।
 श्रीली—(हि. स्त्री.) दूध से निकाली हुई मलाई ।
 श्रीवर—(हि. पुं.) कर्णधार, माझी, मल्लाह ।
 शुकवाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'शोकवाना' ।
 शृगना—(हि. पुं.) जुगनू ।
 शृङ्गना—(हि. पुं.) झुनझुना, घुनघुना ।
 शृङ्गलाना—(हि. क्रि. अ.) चिढ़ना, चिड़-चिड़ाना, खिजलाना ।
 शृङ्गलहट—(हि. स्त्री.) शृङ्गलाने का भाव, चिढ़ ।
 शृङ्ग—(हि. पुं.) प्राणियों का समुदाय, यूथ, गिरोह; —के शृङ्ग—दल के दल ।
 शृङ्गी—(हि. स्त्री.) पीधों को काट लेने के बाद बची हुई खूटी ।
 शुकना—(हि. क्रि. अ.) किसी पदार्थ के ऊपरी भाग का नीचे को लटकना, नवना, निहरना, किसी वस्तु के एक या दोनों सिरों का नवना, किसी सीधी वस्तु का एक ओर लटक जाना, प्रवृत्त होना, क्रुद्ध होना, रिसाना, विनीत होना, नम्र होना, किसी वस्तु को लेने के लिये अग्रसर होना, दत्तचित्त होना, मर जाना, हीनता या हार स्वीकार करना ।
 शुकमुख—(हि. पुं.) ऐसा अन्धकार जब कोई वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़े, झुटपुटा ।
 शुकुरना—(हि. क्रि. अ.) क्रुद्ध होना, खिजलाना, चिढ़ना ।
 शुकुराना—(हि. क्रि. अ.) शोकाना ।
 शुकवाई—(हि. स्त्री.) शुकवाने की क्रिया ।
 शुकवाना—(हि. क्रि. स.) शुकाने का काम दूसरे से कराना ।
 शुकई—(हि. स्त्री.) शुकाने का काम या पारिश्रमिक ।

शुकाना—(हि. क्रि. स.) निहराना, किसी पदार्थ के एक या दोनों सिरों को किसी ओर नवाना, प्रवृत्त करना, नम्र करना, विनीत करना ।
 शुकामुखी—(हि. स्त्री.) देखें 'शुकमुख' ।
 शुकुर—(हि. पुं.) हवा का शोक या झकोरा ।
 शुकुव—(हि. पुं.) किसी ओर नवने या शुकने की क्रिया, शुकने का भाव, चित्त का किसी ओर लगना, प्रवृत्ति, ढाल, उतार ।
 शुकुवट—(हि. स्त्री.) शुकने का भाव, प्रवृत्ति, शुकुव, चाह ।
 शुकुपुटा—(हि. पुं.) सवेरे या शाम का समय जब थोड़ा अन्धकार और कुछ प्रकाश हो ।
 शुकुंग—(हि. वि.) जटावाला, झोंटेवाला ।
 शुकुकाना—(हि. क्रि. स.) झूठी बात द्वारा दूसरे को धोखा देना ।
 शुकुलाना—(हि. क्रि. स.) झूठा ठहराना, झूठा बनाना, असत्य कहकर ठगना, शुकुकाना ।
 शुकुई—(हि. स्त्री.) असत्यता, झूठापन ।
 शुकुठाना—(हि. क्रि. स.) झूठा ठहराना ।
 शुकुठलाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'शुकुठलाना', 'जुठरना' ।
 शुकुन—(हि. स्त्री.) एक चिड़िया, झुनझुनी ।
 शुकुक—(हि. पुं.) नूपुर का शब्द, पैजनी का शब्द ।
 शुकुकना—(हि. क्रि. अ.) झुनझुन शब्द करना, झुनझुन बजना ।
 शुकुकारा—(हि. वि.) महीन, वारीक, पतला ।
 शुकुनझुन—(हि. पुं.) नूपुर आदि के बजने का झुनझुन शब्द ।
 शुकुनझुना—(हि. पुं.) छोटे लड़कों का झुन-झुन शब्द करनेवाला खिलौना, घुनघुना ।
 शुकुनझुनाना—(हि. क्रि. अ., स.) झुनझुन शब्द होना या उत्पन्न करना ।
 शुकुनझुनियाँ—(हि. स्त्री.) सनई का पीधा, एक प्रकार का झुनझुन शब्द करनेवाला गहना, धेड़ी ।
 शुकुनझुनी—(हि. स्त्री.) हाथ या पाँव में उत्पन्न एक प्रकार की सनसनाहट ।
 शुकुपरी—(हि. स्त्री.) देखें 'शोपड़ी' ।
 शुकुप्पा—(हि. पुं.) झब्बा, गुच्छा, झुंड ।
 शुकुवझुवी—(हि. स्त्री.) स्त्रियों का कान में पहिन्ने का एक गहना ।
 शुकुका—(हि. पुं.) एक प्रकार का कान में पहिन्ने का छोटी गोल कटोरी के आकार का गहना, एक पीधा ।
 शुकुमरा—(हि. पुं.) लोहारों का बड़ा हथौड़ा, धन ।

शुमरि—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की रागिनी
 शुमरी—(हि. स्त्री.) लकड़ी की मुंगरी, छत पीटने का एक प्रकार का पिटना ।
 शुमाऊ—(हि. वि.) झूमनेवाला, जो झूमता हो ।
 शुमाना—(हि. क्रि. स.) झूमने में किसी को प्रवृत्त करना ।
 शुमिरना—(हि. क्रि. अ.) झूमना ।
 शुमुकुट—(हि. वि.) कुम्हलाया हुआ, सूखा, दुबल ।
 शुमुकुटिया—(हि. वि.) कुश, दुबला-पतला ।
 शुमुशुरी—(हि. स्त्री.) कम्प, कँपकँपी ।
 शुमुना—(हि. क्रि. अ.) शुराना, सुखना, दुःखाकुल होना, चिन्ता के कारण दुबला होना, अधिक पछतावा करना ।
 शुमुमुट—(हि. पुं.) एक में एक गुंथे हुए पीधे, धनी झाड़ी, मनुष्यों का समूह या जत्था, शरीर को चारों ओर से ढाँप लेने की क्रिया ।
 शुमुवन—(हि. स्त्री.) किसी पदार्थ के सूखने से कम होनेवाला अंश ।
 शुमुवाना—(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु को सुखाने का काम दूसरे से कराना ।
 शुमुसना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'शुलसना' ।
 शुमुसाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'शुलसाना' ।
 शुमुशुरी—(हि. स्त्री.) देखें 'शुमुशुरी' ।
 शुमुराना—(हि. क्रि. अ., स.) शुष्क करना, सुखाना, दुःख से व्याकुल होना, क्षीण होना, दुबला होना ।
 शुमुरावन—(हि. स्त्री.) किसी वस्तु को सुखाने के कारण उसमें होनेवाली कमी ।
 शुमुरी—(हि. स्त्री.) वह चिह्न जो किसी वस्तु के सूख जाने या मुड़ने पर पड़ जाता है, सिकुड़न, शिकन ।
 शुमुका—(हि. पुं.) देखें 'शुनझुना' ।
 शुमुलना—(हि. पुं.) स्त्रियों के पहिन्ने का ढीला कुरता, पालना, झूला; (वि.) झूलनेवाला ।
 शुमुली—(हि. स्त्री.) तार में गुंथा हुआ छोटे-छोटे मोतियों का गुच्छा जिसको स्त्रियाँ नाक की नथ में पहिन्ती हैं, झूमर ।
 शुमुमुला—(हि. वि.) देखें 'झिलमिला' ।
 शुमुलवा—(हि. पुं.) देखें 'झूला', पालना ।
 शुमुलवाना—(हि. क्रि. स.) झूलाने का काम दूसरे से कराना ।
 शुमुलसना—(हि. क्रि. अ.) किसी पदार्थ के ऊपरी भाग का आधा जल जाना, शींसना, धूप या लू के कारण किसी पदार्थ का ऊपरी भाग सूखकर काला पड़ना, मुरझाना; (क्रि. स.) झुलसाना ।

झुलसवाना—(हि. क्रि. स.) झुलसने का काम दूसरे से कराना ।
झुलसाना—(हि. क्रि. स.) किसी पदार्थ के ऊपरी अंश को आधा जला देना ।
झुलाना—(हि. क्रि. स.) किसी को झूलने में प्रवृत्त करना, झोंका देकर लगातार हिलाना, अनिश्चित अवस्था में रखना, आसरे में रखना, किसी को हिंडोले में बैठाकर हिलाना ।
झुहिरना—(हि. क्रि. अ.) लूटना या लाटा जाना ।
झूक—(हि. पुं.) झोंका ।
झूक (ख)ना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'झीखना' ।
झूकटी—(हि. स्त्री.) छोटी झाड़ी ।
झूका—(हि. पुं.) देख 'झोंका', धक्का ।
झूझल—(हि. स्त्री.) देख 'झूझलाहट' ।
झूसना—(हि. क्रि. अ., स.) झुलसना, किसी पदार्थ के ऊपरी भाग को आधा जला देना ।
झूझ—(हि. पुं.) युद्ध ।
झूझना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'जूझना' ।
झूठ—(हि. पुं.) देखें 'झूठ', असत्य ।
झूठ—(हि. वि., पुं.) जो (वात) यथार्थ न हो, असत्य (वात); (मुहा.)—**कापुल बांधना**—विलकुल झूठ बोलना;—**सच कहना, बोलना या लगाना**—निन्दा करना ।
झूठन—(हि. स्त्री.) देखें 'जूठन' ।
झूठमठ—(हि. अन्वय.) योही, असत्य रूप में, निष्प्रयोजन, व्यर्थ ।
झूठ-सच—(हि. पुं.) सच्ची और झूठी बातों का घालमेल ।
झूठा—(हि. वि.) असत्य, मिथ्या, झूठ बोलनेवाला, कृत्रिम, बनावटी, (पुरजा या अंग) जो विगड़ जाने से ठीक-ठीक काम न दे सके; देखें 'जूठा' ।
झूठों—(हि. अन्वय.) नाम मात्र के लिये, वृथा, योही ।
झूम—(हि. स्त्री.) झूमने की क्रिया, झपकी ।
झूमक—(हि. पुं.) होली में गाया जानेवाला एक गीत जिसको स्त्रियाँ एक घेरे में नाचती हुई झूमझूम कर गाती हैं, झूमर गीत के साथ होनेवाला नाच, एक प्रकार का गीत जो विवाहादि मंगल अवसरों पर गाया जाता है, गुच्छा, साड़ी आदि के पल्ले में सिला हुआ मोतियों का गुच्छा;—**साड़ी**—(स्त्री.) जिस साड़ी के पल्ले में मोतियों के गुच्छे लगे हों ।
झूमका—(हि. पुं.) देखें 'झूमक', 'झुमका' ।
झूमड़—(हि. पुं.) देखें 'झूमर';—**झामड़**—(पुं.) झूठा बखेड़ा, निरर्थक प्रपंच ।
झूमड़ा—(हि. पुं.) देखें 'झूमरा' ।

झूमना—(हि. क्रि. अ.) किसी वस्तु का इधर-उधर हिलना या झोंके खाना, लहराना, सिर और घड़ को बारम्बार आगे-पीछे तथा नीचे-ऊपर हिलाना ।
झूमर—(हि. पुं.) सिर में पहिने का एक प्रकार का सोने का आभूषण जिसमें घुंघरू या झन्वे लटके रहते हैं, एक प्रकार का कान में पहिने का गहना, होली में गाया जानेवाला एक प्रकार का गीत, इस गीत के साथ होनेवाला नाच, बहुत-सी स्त्रियों या पुरुषों का मंडलाकार घेरे में घूम-घूम कर नाचना, वच्चों का एक प्रकार का खिलौना, झूमरा ताल ।
झूमरा—(हि. पुं.) चौदह मात्राओं का एक प्रकार का ताल ।
झूमरी—(हि. स्त्री.) शालक राग का एक भेद ।
झूर—(हि. स्त्री.) जलन, दुःख, दाह, परिताप; (वि.) शुष्क, सूखा, व्यर्थ ।
झूरना—(हि. क्रि. अ.) सूखना, याद करना ।
झूरा—(हि. वि.) शुष्क, सूखा; (पुं.) सूखा स्थान, पानी न बरसना, अवर्षण, न्यूनता, कमी ।
झूरि—(हि. स्त्री.) देखें 'झूर' ।
झूरे—(हि. अन्वय.) निरर्थक, व्यर्थ, झूठ-मूठ; (वि.) देखें 'झूर' ।
झूल—(हि. स्त्री.) हाथी-घोड़े की पीठ पर शोभा के लिए डालने का चौकोर वस्त्र, वह कपड़ा जो पहिने पर ढीला और भड़ा जान पड़े, देखें 'झूला' ।
झूलदंड—(हि. पुं.) वर्षा ऋतु में श्रावण शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक होनेवाला एक उत्सव जिसमें मूर्तियाँ झूले पर बैठाकर झुलाई जाती हैं ।
झूलना—(हि. क्रि. अ.) किसी आचार के सहारे लटककर बार-बार इधर-उधर हिलना, झूले पर बैठकर पेंग लेना, अनिर्णीत अवस्था में रहना, अस्थिर रहना, आसरे में देर तक पड़े रहना; (वि.) झूलनवाला; (पुं.) छत्रीस मात्राओं का एक छन्द, हिंदोल, झूला ।
झूलनी बगली—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का व्यायाम ।
झूलनी बैठक—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की बैठक या व्यायाम ।
झूलरि—(हि. स्त्री.) वह छोटा गुच्छा या झुमका जो सर्वदा झूलता रहता है ।
झूला—(हि. पुं.) हिंडोला, बिना खंभे का पुल जो पुष्ट रस्सों, जंजीरों या तारों का बना होता है, जाड़े में पशुओं की पीठ

पर ओढ़ाया जानेवाला वस्त्र, एक प्रकार का स्त्रियों के पहिने का ढीला कुरता, झोंका, झटका, वह विस्तर जिसके दोनों छोर दो खूंटियों में बंध रहते हैं ।

झूलि—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की सुपारी ।
झूली—(हि. स्त्री.) वह चादर जिससे हवा करके अनाज ओसाया जाता है ।
झेपना, झपना—(हि. क्रि. अ.) लज्जित होना ।
झेंपू, झेपू—(हि. वि.) लज्जित होनेवाला, लजाधुर ।
झेर—(हि. स्त्री.) देर, विलंब, झगड़ा, बखेड़ा ।
झेरना—(हि. क्रि. स.) झेलना, आरंभ करना ।
झेरा—(हि. पुं.) प्रपंच, झंझट, बखेड़ा ।
झेल—(हि. स्त्री.) वह क्रिया जो तैरने में पानी में हाथ-पैर चलाकर की जाती है, हलका धक्का, हिलोरा, झेलने की क्रिया, विलंब, देर ।
झेलना—(हि. क्रि. स.) सहन करना, ऊपर लेना, तैरने में पानी में हाथ पैर चलाना, ढकेलना, हलकर पार करना, पचाना, ग्रहण करना ।
झेलनी—(हि. स्त्री.) कान के आभूषण का भार सँभालने के लिये वाली में अटकाई जानेवाली जंजीर ।
झेली—(हि. स्त्री.) वच्चा जनमते समय प्रसूता को हिलाने-डोलाने की क्रिया ।
झोंक—(हि. स्त्री.) प्रवृत्ति, झुकाव, तराजू के किसी पलड़े का नीचा-ऊँचा होना, प्रचंड गति, बोझ, भार, वेग, कार्य की गति, किसी कार्य को बड़े समारोह से आरम्भ करने की क्रिया, सजावट, ठाटवाट, पानी का हलरा, वैलगाड़ी की मजबूती के लिये दोनों ओर लगाये हुए लट्ठे; **नोक-झोंक**—(पुं.) ठाट-वाट ।
झोंकना—(हि. क्रि. स.) आग में फेंकना, वेग से आगे की ओर बढ़ाना, बिना सोचे-विचारे अधिक व्यय करना, अधिक कार्यभार किसी पर डालना, किसी को आपत्ति में डालना, बिना विचारे दोषारोपण करना, ठेलना, ढकेलना, घुरे स्थान में डालना; (मुहा.) **भाड़ झोंकना**—नीच कार्य करना ।
झोंकवा—(हि. पुं.) भट्टी या भाड़ में इन्धन झोंकनेवाला ।
झोंकवाई—(हि. स्त्री.) झोंकने की क्रिया या वेतन ।
झोंकवाना—(हि. क्रि. स.) झोंकने का काम किसी से कराना ।
झोंका—(हि. पुं.) झोंकने की क्रिया, तेज

हवा का झकोरा, झकझोरा, वायु का आघात, पानी का हिलोरा, ऐसा धक्का जिससे कोई पदार्थ गिर पड़े, झपट्टा, सजावट, ठाट, व्यायाम की एक युक्ति।
झोंकाई—(हि. स्त्री.) झोंकने की क्रिया या पारिश्रमिक।

झोंकिया—(हि. पुं.) भाड़ म पत्ते झोंकनेवाला।

झोंकी—(हि. स्त्री.) उत्तरदायित्व, भार, बोझ, अनिष्ट की आशंका, जोखिम।

झोंझ—(हि. पुं.) घोंसला, खोंता, कुछ पक्षियों के गले से लटकता हुआ मांस या थैली, खुजली, सुरसुराहट।

झोंझल—(हि. पुं.) क्रीव, रोप, कुड़न, गुस्सा।

झोंझा—(हि. स्त्री.) बया पक्षी का घोंसला।

झोंट—(हि. पुं.) झाड़ी, झाड़, झुरमुट।

झोंटा—(हि. पुं.) बड़े-बड़े वालों का समूह, एक बार हाथ में आ जानेवाला लंबी पतली वस्तुओं का समूह, जुट्टा, झूले को इधर-उधर हिलाने के लिये दिया हुआ धक्का, झोंका, पग।

झोंटी—(हि. स्त्री.) देखें 'झोंटा'।

झोंपड़ा—(हि. पुं.) कच्ची मिट्टी की भीत बनाकर घास-फूस से छाया हुआ घर, पर्णशाला, कुटी; अंधा झोंपड़ा—(पुं.) उदर, पेट।

झोंपड़ी—(हि. स्त्री.) छोटा झोंपड़ा, कुटिया।

झोंपा—(हि. पुं.) झब्बा, गुच्छा।

झोंपिंग—(हि. वि.) जिसके माथे पर बड़े-बड़े और खड़े बाल हों, झोंटेवाला; (पुं.) भूत, प्रेत, पिशाच।

झोंड़—(हि. पुं.) गुल्म, सुपारी का वृक्ष।

झोंपड़ा, झोंपड़ी—(हि. पुं., स्त्री.) देखें 'झोंपड़ा, झोंपड़ी'।

झोर—(हि. पुं.) देखें 'झोल'।

झोरई—(हि. वि., स्त्री.) झोलदार (रसेदार) (तरकारी)।

झोरना—(हि. क्रि. स.) झटका देकर कँपाना या हिलाना, एकत्र करना।

झोरा—(हि. पुं.) झब्बा, गुच्छा, देखें 'झोला'।

झोरि—(हि. स्त्री.) देखें 'झोली'।

झोरी—(हि. स्त्री.) झोली, एक प्रकार की रोटी।

झोल—(हि. पुं.) तरकारी आदि का गाढ़ा रसा, एक प्रकार की पतली लेई, एक प्रकार की कढ़ी, पीच, माँड़, धातु पर चढ़ाया जानेवाला मुलम्मा, झूल की तरह लटकती हुई वस्तु, आंचल, पल्ला, आड़, ओट, परदा, गर्भ से निकले हुए बच्चे या अंडे की झिल्ली, गर्भ, भस्म, राख, दाह, जलन, अशुद्धि।

भूल; (हि. वि.) ढीला (वस्त्र), निकम्मा; -दार—(वि.) रसे से भरा हुआ, रसायुक्त, मुलम्मा किया हुआ, ढीला-ढाला, झोल संबंधी।

झोलना—(हि. क्रि. स.) जलाना, दाह करना।

झोला—(हि. पुं.) कपड़े की बड़ी थैली, एक प्रकार का वात रोग, आघात, झोंका, वाधा, खोली, चोला, साधुओं का ढीला-ढाला कुरता, फसल का एक रोग, आपत्ति, धक्का, झटका।

झोली—(हि. स्त्री.) कपड़ा मोड़कर बनाई हुई थैली, धोकरी, घास आदि बाँधने का जाल, चरसा, मोट, ओसाने का कपड़ा, पेच, सफरी बिस्तर जिसके चारों कोनों पर रस्सियाँ बँधी रहती हैं, एक तरह का फन्दा, राख, भस्म; (मुहा.)

-बुझाना—करने का समय गुजर जाने के बाद कुछ करना, शव जल जाने के बाद उसकी राख बुझाना।

झोंझट—(हि. पुं.) देखें 'झंझट'।

झोंद—(हि. पुं.) उदर, पेट।

झौर—(हि. पुं.) समूह, झुंड, पेड़ों या झाड़ियों का समूह, कुज, कलियों, पत्तियों या छोटे फलों का गुच्छा, झब्बा, एक प्रकार का गहना जिसमें मोतियों या चाँदी-सोने के दानों के गुच्छ लटकाये रहते हैं।

झौरना—(हि. क्रि. अ.) गुंजना, गुंजारना।

झौराना—(हि. क्रि. अ.) झूमना, इधर-उधर हिलना, कुम्हलाना, मुरझाना, झँवर होना।

झोंसना—(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'झुलसना', 'झुलसाना'।

झौर—(हि. पुं.) प्रपंच, वादविवाद, कहा-सुनी, डाँट-डपट।

झौरना—(हि. क्रि. स.) झपटकर पकड़ लेना, छीप लेना, दबोच लेना।

झौरा—(हि. पुं.) झंझट, बखेड़ा।

झोरे—(हि. अव्य.) संग, साथ, समीप।

झोवा—(हि. पुं.) खँचिया, रहठे की बनी हुई दौरि।

झोहाना—(हि. क्रि. अ.) जोर से डाँटना, चिड़चिड़ाना, गुराना।

ज

ज—हिन्दी और संस्कृत व्यंजन वर्ण का दसवाँ अक्षर, चवर्ग का पाँचवाँ अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान तालु और नासिका है; (सं. पुं.) गानेवाला, घर-

घर शब्द, वैल, अघर्मी।

जकार—(सं. पुं.) 'ज' स्वरूप वर्ण।

ट

ट—संस्कृत और हिन्दी वर्णमाला का ग्यारहवाँ व्यंजन तथा टवर्ग का पहला अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान मूर्धा है।

टंक—(सं. पुं.) चार माशे के बराबर तौल, एक पुरातन मुद्रा, पत्थर गढ़ने का उपकरण या औजार।

टंकक—(सं. पुं.) चाँदी का सिक्का, टंकण करनेवाला।

टंकण—(सं. पुं.) सुहागा, टाँका देने की क्रिया, टाइप करना।

टंकना—(हि. क्रि. अ.) कील आदि जड़ना, जड़ा जाना, सिला जाना, सिलाई से जुड़ना, सिलाई द्वारा अटकाया जाना, रेती के दाँतों का पैना होना, अंकित होना लिखा जाना, कुटना, रेंता जाना।

टंकवाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'टंकाना'।
टंका—(हि. पुं.) पुराने काल की तौल जो तौले के बराबर मानी जाती थी, ताँवे की एक पुरानी मुद्रा; (स्त्री.) एक प्रकार की रागिनी।

टंकाई—(हि. स्त्री.) टाँकने की क्रिया या वेतन।

टंकाना—(हि. क्रि. स.) टाँकों से जुड़वाना या सिलवाना, सिलाकर लगवाना, कुटाना, खुरदुरा करना, मुद्रा की जाँच करवाना।

टंकार—(हि. स्त्री.) तार पर उँगुली मारने पर उत्पन्न टनटन शब्द, धनुष की कसी हुई डोरी खींचने से उत्पन्न शब्द, धातुखंड पर चोट पड़ने से उत्पन्न शब्द, ठनाका, झनकार।

टंकारना—(हि. क्रि. स.) धनुष की डोरी तानकर टंकार उत्पन्न करना, चिल्ला खींचकर झनकारना।

टंकी—(हि. स्त्री.) श्री राग की एक रागिनी, पानी रखने का कुंड, टाँका।

टंकोर—(हि. पुं., स्त्री.) देखें 'टंकार'।

टंकोरना—(हि. क्रि. स.) धनुष की डोरी खींचकर ध्वनि उत्पन्न करना, देखें 'टंकारना'।

टंकी (की) री—(हि. स्त्री.) सोना-चाँदी तौलने का छोटा तराजू, काँटा।

टँगड़ी—(हि. स्त्री.) घुटने से लेकर एड़ी तक का भाग, टाँग।

टँगना—(हि. क्रि. अ.) लटकना, फाँसी पर

चढ़ना या लटकाया जाना; (पुं.) कपड़ा रखने की अलगनी; (मुहा.) टंग जाना—फाँसी पर चढ़ना।

टंगरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'टंगड़ी'।

टंगरी—(हिं. स्त्री.) छोटा टांगा।

टंच—(हिं. वि.) कृपण, कंजूस, कठोर-हृदय, निष्ठुर।

टंचटंच—(हिं. पुं.) बाँस, घंटा आदि वजाकर पूजा करने का मिथ्या आडम्बर, झूठा प्रपंच, काठ-कवाड़।

टंटा—(हिं. पुं.) प्रपंच, आडम्बर, खटराग, उपद्रव, लड़ाई-झगड़ा।

टंडल—(हिं. पुं.) मजदूरों का जमादार।

टंडिया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का बाँह में पहिने का आभूषण।

टंडुलिया—(हिं. स्त्री.) काँटेदार वन-चौराई।

टंडल—(हिं. पुं.) देख 'टंडल'।

टई—(हिं. स्त्री.) युक्ति।

टक—(हिं. स्त्री.) स्थिर दृष्टि, लकड़ी, घास आदि तौलने की तराजू का चौखूँटा पलड़ा; (मुहा.)—टक देखना—विना पलक गिराये देर तक देखना;—ब्रंधना—टंकटकी बाँधकर देखना;—लगाना—प्रतीक्षा करते रहना।

टकटका—(हिं. पुं.) स्थिर दृष्टि, टकटकी।

टकटकाना—(हिं. क्रि.स.) टकटकी बाँधकर देखना, टकटक शब्द करना।

टकटकी—(हिं. स्त्री.) निर्निमेष दृष्टि; (क्रि.प्र.)—ब्रंधना—स्थिर दृष्टि से देखना।

टकटोना, टकटोरना, टकटोलना—(हिं. क्रि. स.) उँगलियों से छूकर पता लगाना, टटोलना, हँडना।

टकटोहन—(हिं. पुं.) उँगलियों से छूकर या टटोलकर देखने की क्रिया।

टकटोहना—(हिं. क्रि.स.) देखें 'टटोलना'।

टकराना—(हिं. क्रि.अ., स.) वेग से ठोकर लगाना, मिड़ना, धक्का खाना, मारा-मारा फिरना, इधर-उधर घूमना, पटकना, मिड़ना।

टकसरा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बाँस।

टकसाल (र)—(हिं. स्त्री.) टंकशाला, मुद्रा ढालने का कारखाना, प्रामाणिक वस्तु, जँची हुई वस्तु।

टकसाली—(हिं. वि.) टकसाल का बना हुआ, खरा, चोखा, जँचा हुआ, परीक्षित, प्रामाणिक, सर्वसम्मत, माना हुआ; (पुं.) टकसाल का अध्यक्ष।

टकहाई—(हिं. वि., स्त्री.) वेद्याओं में निकुण्ट।

टका—(हिं. पुं.) चाँदी की पुरानी मुद्रा, धन, रुपया-पैसा, तीन तोले का ताँबे का पुराना अघना, दो पैसे का ताँबे का

पुराना सिक्का; (मुहा.)—साजवाब देना—स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करना;—सा मुँह लेकर रह जाना—अति लज्जित होना, खिसिया जाना; टकेगज की चाल—थोड़े व्यय में निर्वाह, मोटी चाल।

टकाई—(हिं. वि.) देख 'टकाही'।

टकाटकी—(हिं. स्त्री.) देखें 'टकटकी'।

टकातोप—(हिं. स्त्री.) जहाज पर लगी हुई तोप।

टकाना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'टंकाना'।

टकार—(सं. पुं.) 'ट' अक्षर का स्वरूप।

टकासी—(हिं. स्त्री.) दो पैसे प्रति रुपये का व्याज।

टकाही—(हिं. वि.) नीच और पुश्चली (स्त्री)।

टकी—(हिं. स्त्री.) देखें 'टकटकी'।

टकुआ—(हिं. पुं.) चरखे में लगाने का सूजा, तकला जिस पर सूत काता और लपेटा जाता है, वह तागा जो छोटे तराजू या काँटे में बाँधा जाता है।

टकुली—(हिं. स्त्री.) पत्थर काटने की टाँकी, छेनी, बेल-बूटे बनाने या नकाशी करने का उपकरण।

टकैत—(हिं. वि.) जिसके पास धन हो, अमीर।

टकोर—(हिं. स्त्री.) प्रहार, आघात, हलकी चोट, थपड़ा, ठेस, नगाड़े का शब्द, धनुष की टंकार, दवा भरी हुई पोटी से सेंकने की क्रिया, तीक्ष्णता, चरपरहाट, खट्टी वस्तु खाने से दाँतों की टीस।

टकोरना—(हिं. क्रि. स.) ठोकर लगाना, हलकी चोट लगाना, वजाना, धाव सेंकना।

टकोरा—(हिं. पुं.) डंके की चोट, (नगाड़े पर) आघात।

टकोरो—(हिं. स्त्री.) आघात, टक्कर।

टकोरी—(हिं. स्त्री.) वह छोटा तराजू (काँटा) जिससे सोना-चाँदी तौला जाता है।

टक्कर—(हिं. स्त्री.) दो वस्तुओं का वेग से परस्पर मिड़ना, ठोकर, लड़ना, मिड़न्त, क्षति, हानि, सिर से मारने का आघात;—का—तुल्य, समान, बराबरी का; (मुहा.)—खाना या झेलना—मारा-मारा फिरना, टकराना;—मारना—हैरान होना;—लड़ना—सिर से सिर पर आघात करना;—लेना—बार का मुकाबला करना।

टखना—(हिं. पुं.) एड़ी के ऊपर उमड़ी हुई हड्डी की गाँठ।

टगण—(सं. पुं.) छः मात्राओं का एक गण।

टगर—(सं. पुं.) टंकण, धार, सोहागा, विलास, कीड़ा; (वि.) ऐँचाताना, भंगा।

टगरा—(हिं. वि.) भंगा ऐँचाताना।

टघरना—(हिं. क्रि. अ.) द्रवित होना, पिघलना।

टघराना—(हिं. क्रि. स.) पिघलाना।

टचटच—(हिं. अव्य.) धार्य-धार्य करते हुए।

टचनी—(हिं. स्त्री.) कसेरे की नक्काशी करने की टाँकी।

टटका—(हिं. वि.) नया, कोरा, ताजा, हाल का, तुरत का तैयार किया हुआ।

टटल-बटल—(हिं. वि.) अस्तव्यस्त, ऊट-पटांग।

टटाना—(हिं. क्रि.अ.) सूखकर कड़ा हो जाना।

टटावली—(हिं. स्त्री.) टिटिहरी, कुररी।

टटिया—(हिं. स्त्री.) देखें 'टट्टी'।

टटोवा—(हिं. पुं.) चक्कर, धिरनी।

टटोरी—(हिं. स्त्री.) टिटिहरी, कुररी।

टटूआ—(हिं. पुं.) देखें 'टटू'।

टटूई—(हिं. स्त्री.) मादा टटू, छोटे कद की घोड़ी।

टटोल—(हिं. स्त्री.) टटोलने का काम।

टटोना, टटोरना—(हिं. क्रि.स.) टटोलना।

टटोलना—(हिं. क्रि. स.) उँगलियों से छूकर किसी वस्तु को मालूम करना, हँडने के लिये इधर-उधर हाथ रखना, बोल-चाल से ही किसी के मन के भाव का पता लगा लेना, जाँच करना, आजमाना, परखना।

टट्टनी—(सं. स्त्री.) छिपकली।

टट्टर—(हिं. पुं.) बाँस की फट्टियों आदि का बना हुआ ढाँचा या पल्ला जो आड़ के लिये कहीं पर लगाया जाता है।

टट्टरी—(सं. स्त्री.) ढोल का शब्द, डींग, शंखी।

टट्टी—(हिं. स्त्री.) देखें 'टट्टर', चिक, परदा, चिलमन, आड़ करने की पतली भीत, मचान जिस पर लता चढ़ाई जाती है; (मुहा.)—की आड़ में शिकार करना—गुप्त रूप से व्यभिचार या अनहित करना; धोखे की टट्टी—छलने का उपाय।

टट्टर—(सं. पुं.) तुरही वजने का शब्द।

टट्टू—(हिं. पुं.) छोटे कद का घोड़ा, टांगन; (मुहा.) भाड़े का टट्टू—धन लेकर किसी का काम करनेवाला।

टट्टिया—(हिं. स्त्री.) देखें 'टाटी'।

टडिया—(हिं. स्त्री.) बाँह पर पहिने का स्त्रियों का एक गहना।

टन—(हिं. स्त्री.) धातु के पात्र पर आघात करने से उत्पन्न शब्द, झनकार।

टनकना—(हिं. क्रि. अ.) टनटन वजना सिर में पीड़ा होना।

टनटन—(हि. स्त्री.) घंटा बजने का शब्द ।
 टनटनाना—(हि. क्रि. अ., स.) टनटन शब्द निकालना, घंटा बजाना, घंटा बजना ।
 टनमन—(हि. पुं.) तन्त्र-मन्त्र, जादू-टोना ।
 टनमना—(हि. वि.) स्वस्थ, चंगा, जो सुस्त न हो ।

टना—(हि. पुं.) योनि, भग, योनि के बीच की उमड़ी हुई मांस की ग्रन्थि ।

टनाका—(हि. पुं.) घंटा बजने का शब्द; (वि.) कड़ी (धूप) ।

टनाटन—(हि. पुं., स्त्री.) निरन्तर घंटा बजने का शब्द ।

टप—(हि. स्त्री. पुं.) फिटिन, टमटम आदि गाड़ियों में लगा हुआ चमड़े या कपड़े का ओहार, कलंदरा, लटकानेवाले लम्प के ऊपर की छतरी; नाँद के आकार का पानी रखने का बड़ा पात्र, टाँका, कान में पहिनने का एक प्रकार का आभूषण, बूँद-बूँद करके टपकने का शब्द, एकाएक किसी वस्तु के गिरने का शब्द ।

टपक—(हि. स्त्री.) टपकने का भाव, बूँद-बूँद करके गिरने का शब्द, रह-रहकर होनेवाली पीड़ा ।

टपकना—(हि. क्रि. अ.) बूँद-बूँद करके गिरना, रसकर बहना, चूना, पके हुए आम का वृक्ष से आप से आप गिरना, टूट पड़ना, किसी भाव का अधिकता से प्रकट या आभास होना, फिसलना, चोट आदि के कारण शरीर में पीड़ा होना, टीस मारना, चिलकना, युद्ध में धायल होकर गिर पड़ना; (मुहा.) टपक पड़ना—अकस्मात् आ जाना ।

टपका—(हि. पुं.) बूँद-बूँद करके गिरने का भाव, रक-रककर होनेवाली पीड़ा, रककर आप से आप गिरा हुआ फल, टपकी हुई वस्तु, रसाव ।

टपका-टपकी—(हि. स्त्री.) वर्षा की बूँदा-बूँदी, किसी वस्तु को लेने के लिए मनुष्यों का एक पर एक टूटना, (महामारी में) एक के बाद दूसरे की लगातार मृत्यु; (वि.) मूला-भटका, थोड़ा-सा, एक-आध ।

टपकाना—(हि. क्रि. स.) बूँद-बूँद करके गिराना, चुआना, भमके से अक उतारना ।

टपकाव—(हि. पुं.) टपकाने की क्रिया ।

टपना—(हि. क्रि. अ., स.) बिना खाये-पीये रहना, निराहार रहना, व्यर्थ किसी के आसरे बैठे रहना, आच्छादित करना, टाँपना ।

टपमाल—(हि. पुं.) जहाजों पर काम में आनेवाला लोहे का व. धन ।

टपाटप—(हि. अव्य.) लगातार टप-टप शब्द के साथ, शीघ्रता से, झटपट ।

टपाना—(हि. क्रि. स.) निराहार पड़ा रहने देना, आसरे में रखना ।

टप्पर—(हि. पुं.) छाजन, छप्पर ।

टप्पा—(हि. पुं.) दो स्थानों के बीच का विस्तृत और सुनसान मैदान, भूमि का छोटा भाग, अन्तर, दूर-दूर की सिलाई, पाल से चलनेवाली नावों का वेड़ा, एक प्रकार का हुक या काँटा, वह ठहराव जहाँ पालकी के कहार बदले जाते हैं, वह दूरी जहाँ फेंकी हुई चीज गिरे, उछलकर जाती हुई वस्तु का बीच-बीच का टिकाना ।

टमकी—(हि. स्त्री.) छोटा नगाड़ा, डुग-डुगी ।

टमटम—(अं. पुं.) दो पहियों की एक घोड़े-वाली खुली गाड़ी ।

टमटी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पात्र ।

टमाटर—(हि. पुं.) एक प्रकार का विलायती वैगन जो खट्टा होता है ।

टर—(हि. पुं.) कर्कश शब्द, कड़ुई बोली, मेढक की बोली, अहंकारपूर्ण वचन, हठ, तुच्छ वार्ता, अकड़, ऐंठन; (क्रि. प्र.) —टर करना—रुक्षता से बोलना ।

टरकना—(हि. क्रि. अ.) टल जाना, हट जाना ।

टरकाना—(हि. क्रि. स.) स्थान से हटा देना, हटाना, खिसकाना, टाल देना, घटा बताना ।

टरकुल—(हि. वि.) अति सामान्य ।

टरगी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास ।

टरटराना—(हि. क्रि. अ.) व्यर्थ की बातें करना, बकबक करना, टरटर करना ।

टरना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'टलना' ।

टरनि—(हि. स्त्री.) टरने का ढंग या भाव ।

टर्रा—(हि. वि.) घृष्टता से बोलनेवाला, कटुवादी, घमंड से बातें करनेवाला ।

टर्राना—(हि. क्रि. अ.) उड़ंतता और घमंड के साथ उत्तर देना, कठोर वचन बोलना ।

टर्रापन—(हि. पुं.) कटुवादिता, बात करने में घृष्टता ।

टर्रं—(हि. पुं.) चिढ़कर बोलनेवाला, मेढक, एक प्रकार का खिलौना ।

टलन—(सं. पुं.) व्यग्रता ।

टलना—(हि. क्रि. अ.) अपने स्थान से सरकना, हटना, अनुपस्थित होना, किसी स्थान पर न रह जाना, चलता होना, दूर होना, मिटना, अन्यथा होना, ठीक न ठहरना. समय बढ़ना, उल्लंघित होना, पूरा न किया जाना समय बीतना;

(मुहा.) बात से टलना—प्रतिज्ञा भंग करना ।

टलमल—(हि. वि.) हिलता हुआ ।

टलहा—(हि. वि.) खोटा (सिक्का इ०) ।

टलाटली—(हि. स्त्री.) टाल-मटोल, योंही बहानेवाजी ।

टवर्ग—(सं. पुं.) ट, ठ, ड, ढ, ण—इन पाँच वर्णों का समूह ।

टवाई—(हि. स्त्री.) व्यर्थ की धुमाई ।

टस—(हि. स्त्री.) टसकने का शब्द, कपड़े आदि के फटने का शब्द; (मुहा.)—से मस न होना—किसी भारी पदार्थ का स्थान से थोड़ा-सा भी न खिसकना, विनती आदि का कुछ प्रभाव न पड़ना ।

टसक—(हि. स्त्री.) डुग्गी, रह-रहकर होने-वाली पीड़ा, टीस, चसक, पीड़ा ।

टसकना—(हि. क्रि. अ.) किसी भारी वस्तु का स्थान से खिसकना, हटना, टीस मारना, रक-रककर पीड़ा होना, प्रभावित होना ।

टसकाना—(हि. क्रि. स.) खिसकाना, किसी भारी वस्तु को स्थान से हटाना ।

टसर—(हि. पुं.) एक प्रकार का कड़ा तथा मोटा रेशम ।

टसुआ—(हि. पुं.) अश्रु, आंसू ।

टहकना—(हि. क्रि. अ.) रह-रहकर पीड़ा होना, पिचलना ।

टहना—(हि. पुं.) वृक्ष की शाखा, डाल ।

टहनी—(हि. स्त्री.) वृक्ष की पतली-डाली ।

टहल—(हि. स्त्री.) सेवा, शुश्रूषा, काम-धंधा, चाकरी; (मुहा.)—बजाना—सेवा करना ।

टहलना—(हि. क्रि. अ.) मन्द गति से भ्रमण करना, धीरे-धीरे चलना; (मुहा.) टहल जाना—चला जाना, सरक जाना ।

टहलनी—(हि. स्त्री.) दासी, नौकरानी, लौंडी, बत्ती उसकाने की लकड़ी ।

टहलाना—(हि. क्रि. स.) धीरे-धीरे चलाना-फिराना, दूर करना ।

टहलुआ—(हि. पुं.) टहल करनेवाला, सेवक, चाकर ।

टहलुई—(हि. स्त्री.) दासी, लौंडी ।

टहलुवा—(हि. पुं.) देखें 'टहलुआ' ।

टहलू—(हि. पुं.) चाकर, नौकर, सेवक ।

टही—(हि. स्त्री.) मतलब साधने का ढंग, प्रयोजन सिद्ध करने की युक्ति ।

टहूका—(हि. पुं.) पहेली, चुटकुला ।

टहोका—(हि. पुं.) धक्का, झटका; (मुहा.)—खाना—ठोकर खाना;—देना—ढकेलना ।

टांक-(हि. स्त्री.) चार मासे की एक तौल जिसका प्रचार जौहरियों में है, लिखावट, लेखनी की नोक, जांच, हिस्सेदारों का बखरा।

टांकना-(हि.क्रि.स.) कील या कांटे से जड़ना या जोड़ना, वही पर लिखना या चढ़ाना, सिलाई करके जोड़ना, रेती तीक्ष्ण करना, चट कर जाना, उड़ा जाना, सिल, चक्की आदि के तल को खुरदुरा बनाना, कूटना, अनुचित रूप से घन ले लेना।

टांका-(हि. पुं.) जोड़ मिलाने का कांटा या कील, सिलाई का अलग-अलग भाग, डोम, सिलाई, सीवन, चिप्पी, चकती, गरीर के घाव या कटे स्थान की सिलाई, वह मसाला जिससे घातु के पात्र जोड़े जाते हैं, पानी रखने का खुले मुंह का बड़ा पात्र, कंडाल।

टांकी-(हि. स्त्री.) पत्थर गढ़ने की छेनी, काटकर बनाया हुआ छेद, आरी का दांत, एक प्रकार का फोड़ा, छोटा हाँज, छोटा कंडाल, छोटा टांका।

टांग-(हि. स्त्री.) जाँघ से लेकर एड़ी तक का शरीर का अंग, मल्लयुद्ध की एक युक्ति; (मुहा.)-अड़ाना-बिना अधिकार के हस्तक्षेप करना; विघ्न डालना;-के नीचे से निकलना-हार मानना;-पसारकर सोना-निश्चिन्त होकर सोना।

टांगन-(हि. पुं.) कम ऊँचाई का घोड़ा, टट्टू।

टांगना-(हि. क्रि. स.) किसी पदार्थ को खूँटी आदि पर लटकाना, फाँसी देना।

टांगा-(हि. पुं.) बड़ी कुल्हाड़ी, एक घोड़े से खींची जानेवाली एक प्रकार की दो पहियोंवाली गाड़ी जिसका पिछला भाग बहुत झुका रहता है।

टांगी-(हि. स्त्री.) छोटी कुल्हाड़ी।

टांगु(मु)न-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का गरीबों के खाने का अन्न।

टांच-(हि. स्त्री.) दूसरे का काम बिगाड़ने की बात, टांका, सिलाई, डोम, वह टुकड़ा जो किसी फटे कपड़े में सिला जाय, चकती।

टांचना-(हि.क्रि.स.) टांकना, सीना, डोम लगाना, काटना, छांटना, छीलना, तराशना।

टांची-(हि. स्त्री.) कपड़े की लंबी-पतली थैली जिसमें रुपये मरकर लोग कमन में बाँधते हैं।

टांट-(हि. पुं.) कपाल, खोपड़ी।

टांठ, टांठा-(हि. वि.) कठोर, दृढ़, हृष्ट-पुष्ट।

टांड-(हि. स्त्री.) सामान रखने की पाटन, परछती, मचान जिस पर बैठकर किसान खेत की रखवाली करता है, स्त्रियों का बाँह में पहिने का एक आभूषण, ढेर, राशि, घरों की पंक्ति।

टांडाँ-(हि. पुं.) वनजारों के वैलों का झुंड जिन पर अन्न लदा होता है, व्यापारियों के माल का चालान, व्यापारियों का झुंड, परिवार, कुटुम्ब।

टांडी-(हि. स्त्री.) शलम, टिड्डी।

टाँय टाँय-(हि. स्त्री.) अप्रिय शब्द, टें-टें, बकवाद; (मुहा.)-फिस-निरर्थक-आडंबर जिसका कुछ परिणाम न हो।

टाँस-(हि. स्त्री.) हाथ-पैर की नसों की सिकुड़न।

टाइप-(अं. पुं.) छपाई के काम आनेवाले सीसे के ढले अक्षर।

टाकू-(हि. पुं.) टेंकुआ, तकला।

टाट-(हि. पुं.) सन या पटुए का बना हुआ मोटा कपड़ा, विरादरी, सहूकार के बैठने की गद्दी; (मुहा.)-उलटना-महाजन का दिवाला बोलना;-बाफी जूता-(स्त्री.) कामदार बढ़िया जूता।

टाटर-(हि. पुं.) टट्टर, टट्टी, मस्तक की हड्डी, कपाल, खोपड़ी।

टाटिक, टाटी-(हि. स्त्री.) देखें 'टट्टी'।

टान-(हि. स्त्री.) फैलाव, तनाव, खिंचाव; (पुं.) मचान।

टानना-(हि. क्रि. स.) खींचना, तानना।

टाप-(हि. पुं.) घोड़े के पैर का सबसे निचला भाग, खुर, वह शब्द जो चलते समय घोड़े के पैर से होता है, झावा जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, मुरगियों को बन्द करने का झावा।

टापड़-(हि. पुं.) ऊसर मैदान।

टापदार-(हि. वि.) जिसका ऊपरी या नीचे का भाग फैला हुआ हो।

टापना-(हि.क्रि.अ.स.) घोड़े का पैर पटकना, इधर-उधर व्यर्थ घूमना, उछलना, कूदना, टक्कर मारना, निराहार पड़ा रहना, वृथा किसी की प्रतीक्षा करना, पछताना।

टापा-(हि.पुं.)टप्पा, उजाड़ मैदान, किसी वस्तु को ढकने का ढोकरा या झावा।

टापू-(हि. पुं.) वह भूमिखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, द्वीप।

टाबर-(हि.पुं.) लड़का, बालक, छोकरा।

टामक-(हि. पुं.) डुग्गी, डुगडुगी।

टामन-(हि. पुं.) तन्त्र-मंत्र, टोटका।

टार-(सं.पुं.) तुरंग, घोड़ा, कुटना; (हि. पुं.) राशि, ढेर; (स्त्री.) टाल।

टारन-(हि. पुं.) सरकाने की वस्तु, कोल्हू में लगा हुआ लकड़ी का डंडा।

टाल-(हि. स्त्री.) बड़ी राशि, ऊँचा ढेर, गंज, अटाला, लकड़ी, मूसे आदि की दुकान; टालने की त्रिया या भाव; (पुं.) स्त्री-पुरुष का समागम कराने-वाला, कुटना, भडुआ।

टाल-टूल-(हि.स्त्री.) देखें 'टाल-मटूल'।

टालना-(हि.क्रि.स.) उल्लंघन करना, न मानना, समय व्यतीत करना, किसी कार्य को पूरा करने की झूठी आशा देना, किसी को निराश करके लौटा देना, पलटना, फेरना, तरह देना, हटाना, सरकाना, स्थगित करना, भगा देना, दूर करना, मिटाना, नियत समय से आगे टरकाना।

टालमटूल-(हि. स्त्री.) मिस, बहाना।

टालमटोल-(हि. स्त्री.) देखें 'टाल-मटूल', बहाना।

टाला-(हि. वि.) अर्थ, आधा।

टाली-(हि. स्त्री.) गाय-बैल की गरदन में बाँधने की घंटी, जवान बछिया जो तीन वर्ष से कम उम्र की हो और बहुत उछलती-कूदती हो।

टाहली-(हि. पुं.) देखें 'टहलुआ'।

टिंड, टिंडा-(हि.पुं.) एक प्रकार की लता जिसके फलों की तरकारी बनती है।

टिंडर-(हि.पुं.) रूट में लगी हुई वालटी।

टिंडिश-(सं. पुं.) देखें 'टिंड'।

टिंडी-(हि. स्त्री.) हल-की मूठ, जांता घुमाने की मूठ।

टिक-(हि. पुं.) टिककर, लट्टी।

टिकट-(अं. पुं.) रेलगाड़ी आदि से यात्रा करने, सिनेमा आदि देखने के लिये पैसा देकर जो कागज या दफती का अंकित टुकड़ा प्राप्त किया जाता है, डाक विभाग द्वारा चिट्ठियों आदि पर सटाने के लिये वैचा जानेवाला अंकित तथा चित्रित कागज का खंड, लेख्यपत्रों पर लगा हुआ मूल्यांकित तथा राज-चिन्ह चित्रित कागज का खंड, मुद्रा-पत्र।

टिकटिक-(हि. स्त्री.) थोड़ा हाँकते समय मुख से किया जानेवाला शब्द, धड़ी के चलने से उत्पन्न शब्द।

टिकटिकी, टिकठी-(हि. स्त्री.) लकड़ी का बना हुआ वह ढाँचा जिसमें बाँध-

कर अपराधी को कोड़ा या बेंत लगाया जाता है या फाँसी का फन्दा बाँधा जाता है, गव दाने की अरधी, जँची तिपाईं । टिकड़ा—(हि. पुं.) किसी वस्तु का गोल चिपटा टुकड़ा, आँच पर सेंकी हुई मोटी रोटी, बाटी ।

टिकड़ी—(हि. स्त्री.) छोटा टिकड़ा ।

टिकना—(हि. क्रि.अ.) डेरा डालना, कुछ काल के लिये कहीं पर ठहरना, तलछट के रूप में नीचे बैठना, स्थायी रहना, कुछ दिनों तक काम देना, अड़ा रहना, ठहरना, स्थित रहना, न गिरना ।

टिकरी—(हि. स्त्री.) टिकिया, एक प्रकार का नमकीन पकवान ।

टिकली—(हि. स्त्री.) छोटी टिकिया, काँच या पत्ती की बनी हुई छोटी टिकिया जिसको स्त्रियाँ माथे पर चिपकाती हैं, टिकुली, छोटी बिन्दी, सूत कातने का एक उपकरण, तकली ।

टिकस—(हि. पुं.) कर, महसूल, टिकट ।

टिकाई—(हि. स्त्री.) टिकने का भाव ।

टिकाऊ—(हि. वि.) कुछ दिनों तक काम देनेवाला, टिकनेवाला ।

टिकान—(हि. स्त्री.) टिकने का स्थान, बोझ उतारने का स्थान, चट्टी, पड़ाव ।

टिकाना—(हि. क्रि.स.) रहने के लिये स्थान या आश्रय देना, स्थित करना, ठहराना, अड़ाना ।

टिकाव—(हि. पुं.) स्थायित्व, ठहरने का स्थान, पड़ाव, ठहराव ।

टिकिया—(हि. स्त्री.) छोटा गोल टुकड़ा, कोयले की बुकनी का बना हुआ छोटा गोल टुकड़ा जो सुलगाकर चिलम पर रखा जाता है, एक प्रकार की रोटी, एक प्रकार की गोल चिपटी मिठाई ।

टिकुरा—(हि. पुं.) टीला, भीटा ।

टिकुरी—(हि. स्त्री.) सूत कातने की फिरकी, तकली ।

टिकुली—(हि. स्त्री.) देखें 'टिकली', तकली, विंदी ।

टिकंत—(हि.पुं.) राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार, युवराज, अधिष्ठाता, सरदार ।

टिकोर—(हि. स्त्री.) देखें 'टिकोर' ।

टिकोरा—(हि.पुं.) आम का कच्चा छोटा फल, अँविया ।

टिकड़—(हि. पुं.) बड़ी टिकिया, आँच पर सेंकी हुई छोटी-मोटी रोटी, लिट्टी ।

टिक्या—(हि. पुं.) देखें 'टीका' ।

टिकी—(हि. स्त्री.) गोल चिपटा टुकड़ा, टिकिया, लिट्टी, बाटी, गोल टीका,

विंदी, ताश की बूटी, भीत पर अँगुलियों से लगाया हुआ चिह्न ।

टिखटिख—(हि. स्त्री.) देखें 'टिकटिक' ।

टिघलना—(हि. क्रि.अ.) गलना, पिघलना ।

टिघलाना—(हि. क्रि.स.) गलाना, पिघलाना ।

टिचन—(हि. वि.) प्रस्तुत, उद्यत, ठीक, तैयार ।

टिटकारना—(हि. क्रि. अ., स.) टिकटिक करके किसी पशु को हाँकना ।

टिटिह—(हि.पुं.) टिटिहरी नाम का पक्षी ।

टिटिहरी—(हि. स्त्री.) एक छोटी चिड़िया जो प्रायः पानी के किनारे पर रहती है ।

टिटिहा—(हि.पुं.) टिटिहरी ।

टिटिहारोर—(हि.पुं.) चिल्लाहट, शोरगुल ।

टिट्टिम—(सं.पुं.) कुररी, टिटिहरी, टिड्डी ।

टिड्डा—(हि. पुं.) पंखयुक्त एक प्रकार का कीड़ा ।

टिड्डी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का उड़ने-वाला कीड़ा जो दल बाँधकर चलता है, (यह पत्ती खाता और कृषि को हानि पहुँचाता है ।)

टिढविडंग, टिढविगा—(हि. वि.) वक्र, टेढ़ा-मेढ़ा ।

टिपका—(हि. पुं.) पानी की बूंद ।

टिपटिप—(हि. स्त्री.) बूंद-बूंद पानी गिरने का शब्द ।

टिपवाना—(हि. क्रि. स.) धीरे-धीरे प्रहार करवाना, पिटवाना, दबवाना, टीपने का काम दूसरे से कराना ।

टिपारा—(हि. पुं.) मुकुट के आकार की कलंगीदार टोपी ।

टिपुर—(हि.पुं.) अमिमान, घमंड, पाखंड, आडम्बर ।

टिप्पणी—(हि. सं.) देखें 'टिप्पनी' ।

टिप्पन—(सं.पुं.) टीका, व्याख्या, जन्म-पत्रिका ।

टिप्पनी—(सं. स्त्री.) व्याख्या, टीका ।

टिप्पी—(हि. स्त्री.) वह चिह्न जो उँगली म रंग पोतकर बनाया जाता है, ताश की बूटी ।

टिचरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की पहाड़ी चिड़िया ।

टिमटिमाना—(हि. क्रि. अ.) कम प्रकाश देना, मन्द जलना, झिलमिलाना, बुझन पर होना, मरणासन्न होना ।

टिमाक—(हि. स्त्री.) शृंगार, वनाव, ठसक ।

टिर—(हि. स्त्री.) देखें 'टर' ।

टिरफिस—(हि. स्त्री.) प्रतिवाद, विरोध, चीं-चपड़ ।

टिरना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'टरना' ।

टिलटिलाना—(हि. क्रि. अ.) पतलादस्तवाना ।

टिलवा—(हि. पुं.) लकड़ी का टेढ़ा-मेढ़ा गंठीला टुकड़ा, नाटा मनुष्य, चापलूस आदमी ।

टिल्ला—(हि. पुं.) धक्का, ठोकर, चोटा ।

टिल्लेनवीसी—(हि. स्त्री.) नींच सेव, व्यर्थ का काम, वहाना, कुटनपन ।

टिसुआ—(हि. पुं.) अधु. आँसू ।

टिहुक—(हि. स्त्री.) चमक ।

टिहुकना—(हि. क्रि. अ.) ठिठकना, चौंकना, रुठना ।

टिहुनी—(हि. स्त्री.) घुटना, कोहनी ।

टौंड—(हि. पुं.) रहट में बाँधने की बालटी ।

टौंडसी—(हि. स्त्री.) एक लता जिसके फल की तरकारी खाई जाती है ।

टौंडा—(हि. पुं.) वह मूठ जिससे जाँत घुमाया जाता है ।

टीक—(हि. स्त्री.) स्त्रियों का गले में पहिने का एक आभूषण ।

टीकन—(हि. पुं.) वह खंभा जो भार रोकने के लिये नीचे की ओर लगाया जाता है, चाँड़, धूनी ।

टीकना—(हि. क्रि. स.) टीका या तिलक लगाना, दीवार आदि पर उँगलियों का चिह्न बनाना ।

टीका—(सं. स्त्री.) व्याख्या-ग्रन्थ, किसी वाक्य या पद का अर्थ स्पष्ट करनेवाला वाक्य ।

टीका—(हि. पुं.) वह चिह्न जो गीले चन्दन, रोली, केशर आदि से मस्तक, बाहु आदि अंगों पर शोभा के लिये अथवा पूजा-पाठ आदि अनुष्ठानों में लगाया जाता है, तिलक, राजतिलक, वह भट जो असामी राजा को देता है, मस्तक पर पहिने का एक गहना, धब्बा, चिह्न, किसी रोग से बचने के लिये उसी रोग का जीवाणु-तत्व लेकर शरीर में सूई से प्रविष्ट कराना, विवाह-संबंध के आधारीक रस्म में वर के मस्तक पर तिलक लगाने तथा कुछ घन आदि देने की प्रथा, दोनों माँहों के बीच का मस्तक का भाग, सिर का मध्य भाग, श्रेष्ठ मनुष्य, शिरोमणि, राजगद्दी, राज्य का उत्तराधिकारी, युवराज ।

टीकाकार—(सं.पुं.) व्याख्याकार, वह जो किसी ग्रन्थ की टीका लिखता हो ।

टीन—(अं.पुं.) राँग की कलई की हुई लोहे की चद्दर, इसका बना पात्र, कनस्तर ।

टीप—(हि. स्त्री.) टीपने की क्रिया, हलका प्रहार, छत की पिटाई, घनुप के चिल्ले

से उत्पन्न ध्वनि, ऊँचा स्वर, दूध और पानी का शीरा, वह लकीर जो बिना पलस्तर की भीत पर ईंटों के जोड़ों में मसाला देकर बनाई जाती है, जन्मपत्री, कुंडली, गंजीफे का एक खेल, अँगूठे का निशान, हुंडी, स्मरण रखने के लिये किसी बात को टाँक लेने की क्रिया; -टाप-(स्त्री.) आडंबर, ठाट-घाट, दिखावट।

टीपन-(हि. स्त्री.) गाँठ, टाँका, घट्टा, जन्मपत्री।

टीपना-(हि. क्रि. स.) अंकित करना, गंजीफे की खेल जीतना, ऊँचे स्वर में गाना, टीप लगाना, प्रहार करना, धीरे-धीरे ठोकना, चाँपना।

टीमटाम-(हि. स्त्री.) शृंगार, सजावट, तडक-मडक, आडंबर।

टीला-(हि. पुं.) पृथ्वी के तल से ऊँचा भाग, भीटा, मिट्टी या बालू का ऊँचा ढेर, छोटी पहाड़ी।

टीस-(हि. स्त्री.) रह-रहकर होनेवाली जोर की पीड़ा, कसक।

टीसना-(हि. क्रि. अ.) रह-रहकर पीड़ा होना कसक होना।

टुंगना-(हि. क्रि. अ.) कोमल पत्तियाँ आदि दाँत से कुतरकर खाना, कुतरना।

टुंच-(हि. वि.) क्षुद्र, नीच, तुच्छ।

टुटा-(हि. वि.) बिना हाथवाला, लूला।

टुंड-(हि. पुं.) वह वृक्ष जिसकी शाखा कट गई हो, ठूँठ, बिना पत्तियों का वृक्ष, कटे हुए हाथवाला, लूला।

टुंडा-(हि. वि.) टूँठा, जिसमें शाखा और पत्तियाँ न हों, लूला, लुंजा, एक सींग का बल, डुंडा; (पुं.) लूला मनुष्य।

टुंडी-(हि. स्त्री.) बाहुदंड, मुजा; (वि. स्त्री.) जिसके हाथ न हों, लूली।

टुइयाँ-(हि. स्त्री.) छोटी जाति का सुगा, सुगी; (वि.) नाटा, बौना, ठिंगना।

टुइल-(अं. पुं.) एक प्रकार मोटा पर चिकना कपड़ा।

टुक-(हि. वि.) किंचित्, तनिक, थोड़ा।

टुकड़गदा-(हि. पुं.) घर-घर रोटी का टुकड़ा माँगनेवाला, मिखारी; (वि.) तुच्छ, नीच, निर्धन, कंगाल।

टुकड़गदाई-(हि. पुं.) देखें 'टुकड़गदा'; (स्त्री.) मीख माँगने का काम।

टुकड़तोड़-(हि. वि., पुं.) पराश्रित (मनुष्य), (वह मनुष्य) जो दूसरे का दिया हुआ अन्न खाकर रहता है।

टुकड़ा-(हि. पुं.) काटा हुआ अंश, खंड,

भाग, हिस्सा, रोटी का टुकड़ा, प्रास; (मुहा.)-तोड़ जवाब देना-स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करना; -तोड़ना-पराश्रित रहना, दूसरे के दिये हुए अन्न पर निर्वाह करना; -माँगना-भिक्षा माँगना।

टुकड़ी-(हि. स्त्री.) खंड, छोटा टुकड़ा, मंडली, समुदाय, दल, झुंड, जत्था, सेना का एक भाग, कपड़े का टुकड़ा।

टुकनी-(हि. स्त्री.) देख 'टोकनी'।

टुकरी-(हि. स्त्री.) देखें 'टुकड़ी'।

टुघलाना-(हि. क्रि. स.) मुख में रखकर धीरे-धीरे कुचलना, चुमलाना, पागुर करना।

टुच्चा-(हि. वि.) तुच्छ, नीच, ओछा।

टुटका-(हि. पुं.) देखें 'टोटका'।

टुटनी-(हि. स्त्री.) पतली नली, छोटी टोंटी।

टुटपुजिया-(हि. वि.) थोड़ी पूंजी का।

टुटू-(हि. पुं.) छोटी पेंडुकी; -टूँ-(स्त्री.) पेंडुकी की बोली; (वि.)

अकेला, दुर्वल, दुबला-पतला।

टुड़ी-(हि. स्त्री.) चमड़े से मढ़ा हुआ एक प्रकार का वाजा; (स्त्री.) नामि, ढोंढी, टुकड़ी, डली।

टुनका-(हि. पुं.) एक प्रकार का मूत्र रोग।

टुनकी-(हि. स्त्री.) एक परदार कीड़ा जो घान की उपज को हानि पहुँचाता है।

टुनगा-(हि. पुं.) टहनी का आगे का भाग।

टुनगी-(हि. स्त्री.) टहनी का अगला भाग जिसकी पत्तियाँ छोटी और कोमल होती हैं, फुनगी।

टुनहाया-(हि. वि.) जादू-टोना करनेवाला।

टुनि(न)हाई-(हि. स्त्री.) टोना करनेवाली स्त्री।

टुन्ना-(हि. पुं.) वृक्ष का वह डंठल जिसमें फल लगता है।

टुपकना-(हि. क्रि. स.) धीरे से काटना या डंक मारना, चुगली खाना।

टुप्पा-(हि. पुं.) वह रसीद जो रुपया मिलने पर लिखी जाती है।

टुरी-(हि. पुं.) कण, टुकड़ा, दाना, डली।

टुसकना-(हि. क्रि. अ.) देख 'टसकना'।

टूँ-(हि. स्त्री.) गुदा से वायु निकलन का शब्द।

टूंगना-(हि. क्रि. स.) कोमल पत्तियों को दाँत से कुतरना, थोड़ा-थोड़ा करके खाना।

टूंड-(हि. पुं.) डंसनेवाले कीड़ों के मुख के आगे निकली हुई दो पतली नलियाँ जिनको चुमाकर वे रक्त चसते हैं, गेहूँ, जव, घान आदि की बालों के सिरे पर निकला हुआ नुकीला अवयव, सींग।

टूंडी-(हि. स्त्री.) छोटा टूंड, नामि, ढोंढी, गाजर, मुरई आदि की नोक, किसी पदार्थ

की नोक जो दूर तक निकली हो।

टूक-(हि. पुं.) टुकड़ा, खंड।

टूकर-(हि. पुं.) टुकड़ा, खंड।

टूका-(हि. पुं.) खंड, टुकड़ा, रोटी के चार भागों में से एक भाग, रोटी का टुकड़ा, भीख।

टूट-(हि. स्त्री.) टूटकर अलगाया

हुआ अंश, खंड, टुकड़ा, टूटने का भाव,

भूल, त्रुटि, भूल से छूटा हुआ वह शब्द

या वाक्य जो पुस्तक के किनारे पर पीछे

से लिखा जाता है; (पुं.) घाटा, टोटा।

टूटना-(हि. क्रि. अ.) खंडित होना, मग्न

होना, टुकड़े-टुकड़े होना, चलते हुए

क्रम का मंग होना, किसी अंग के जोड़

का उखड़ या हट जाना, अँगड़ाना, झपटना,

आक्रमण करना, अकस्मात् कहीं से आ

जाना, झीण होना, दुर्वल होना, अलग

होना, रुपये का बाकी पड़ना, हानि

होना, टोटा होना, निर्धन होना, शरीर में

पीड़ा होना, संबंध छूटना, युद्ध में दुर्ग

का लिया जाना; (मुहा.)-टूट कर

बरसना-मूसलधार वृष्टि होना।

टूटा-(हि. वि.) खंडित, मग्न, टुकड़ा

किया हुआ, शिथिल, दुबल, निर्धन;

-फटा-(वि.) जीर्ण-शीर्ण; टूटी-फूटी

बोली-(स्त्री.) असंबद्ध वार्ता, बच्चों

जैसी अस्पष्ट बोली।

टूठना-(हि. क्रि. अ.) सन्तुष्ट होना, वृष्ट होना।

टूठनि-(हि. स्त्री.) सन्तोष, तुष्टि।

टूम-(हि. स्त्री.) आभूषण, गहना, अलं-

कार, जेवर, व्यंग्य, ताना; -टाम-(पुं.)

साज-शृंगार, वस्त्र तथा गहना।

टूमना-(हि. क्रि. स.) धक्का देना, ताना

मारना।

टूसा-(हि. पुं.) खंड, नुकीली कली।

टूसी-(हि. स्त्री.) छोटा टूसा या कली।

टूँ-(हि. स्त्री.) सुगं की बोली; (मुहा.)

-टूँ करना-व्यर्थ की बकवाद करना;

-बोलना-मर जाना।

टूँकिका-(हि. स्त्री.) ताल का एक भेद।

टूँगरा, टूँगना-(हि. पुं.) एक प्रकार की

मछली।

टूँगना-(हि. पुं.) घुटना।

टूँगनी-(हि. स्त्री.) घुटने पर की चक्की।

टूँट-(हि. स्त्री.) कमर पर लपेटे हुई

घोती की मुरी, कपास का डोंडा।

टूँटड़, टूँटर-(हि. पुं.) आँख के डेले पर

चोट या रोग के कारण मांस का उमड़ा

हुआ भाग, हँडर।

टूँटा, टूँटार-(हि. पुं.) एक प्रकार की

बड़ी चिड़िया।

टंटी—(हि. स्त्री.) करील का वृक्ष; (वि.)
व्यर्थ झगड़नेवाला ।

टेंडूवा—(हि. पुं.) गला, अँगूठा ।

टेंट—(हि. स्त्री.) सुग्गे की बोली, व्यर्थ
वक्ताव ।

टेंड, टेंडूसी—(हि. स्त्री.) देखें 'टिंड' ।

टेजकी—(हि. स्त्री.) किसी वस्तु को
लुढ़काने या गिरने से बचाने के लिये
लगाई हुई वस्तु, चाँड़, रोक ।

टेक—(हि. स्त्री.) किसी वस्तु को अड़ाये
रखने के लिये नीचे से लगाया हुआ खंभा,
शुनी, चाँड़, आश्रय, सहारा, बैठने का
ऊँचा चबूतरा, अवलम्ब, हठ, जिद,
अभ्यास, गीत का स्थायी पद, छोटी
पहाड़ी, ऊँचा टीला; (मुहा.)—निभना—
प्रतिज्ञा पूर्ण होना;—पकड़ना—हठकरना ।

टेकड़ी—(हि. स्त्री.) टीला ।

टेकन—(हि. पुं.) टेकनी, रोक, चाँड़ ।

टेकना—(हि. क्रि.स.) सहारा देना, ठहराना,
हाथ का सहारा देना, सहारे के लिए
थामना, बीच में पकड़ना या रोकना,
जिद् करना; (मुहा.) माया टेकना—
पैर छूना, प्रणाम करना ।

टेकनी—(हि. स्त्री.) देखें 'टेकन' ।

टेकर, टेकरा—(हि. पुं.) टीला, भीटा,
छोटी पहाड़ी ।

टेकरी—(हि. स्त्री.) देखें 'टेकर' ।

टेकला—(हि. स्त्री.) धुन, रट ।

टेकली—(हि. स्त्री.) वह साधन जिससे
भारी चीज उठाई जाती है ।

टेकान—(हि. पुं.) टेक, चाँड़, खंभा, ऊँचा
चबूतरा जिस पर ढोनेवाला अपना बोझ
रखकर कुछ काल के लिए सुसताता है ।

टेकाना—(हि. क्रि.स.) किसी वस्तु को ले
जाने में सहारा देने के लिए थामना,
सहारा देने के लिए पकड़ना ।

टेकानी—(हि. स्त्री.) वह लोहे की कील
जो गाड़ी के पहिए को धुरे में रोकने
के लिए लगाई जाती है, किल्ली ।

टेकी—(हि. पुं.) अपनी प्रतिज्ञा पर दूढ़
रहनेवाला मनुष्य; (वि.) हठी,
दुराग्रही ।

टेकुआ—(हि. पुं.) कूते हुए सूत को लपेटने
का चरखे का तकला, वह लकड़ी जिस
पर कोई वस्तु अड़ाई जाती है ।

टेकुरी—(हि. स्त्री.) सुआ लगी हुई
फिरकी जिससे रस्सी या सूत बटा जाता
है, सूत कातने का तकला, तागा खींचने
और निकालने का चमार का सुआ,
जुलाहे की फिरकी ।

टेघरना—(हि. क्रि.अ.) पिघलना, गलना ।
टेटका—(हि. पुं.) कान का एक प्रकार का
गहना ।

टेढ़—(हि. स्त्री.) वक्रता, टेढ़ापन, ऐँठन;
—बिड़ंगा—(वि.) टेढ़ा, बेढंगा, टेढ़ा-मेढ़ा ।

टेढ़ा—(हि. वि.) वक्र, कुटिल, जो एक
सीध में न हो, तिरछा, इधर-उधर
धूमा हुआ, झुका हुआ, जो समानान्तर न
हो, उद्धत, पेचीला, कठिन;—मेढ़ा—(वि.)
वक्र, जो सीधा न हो; टेढ़ी खीर—
(स्त्री.) कठिन कार्य; (मुहा.)—होना—
विगड़ना, उग्र रूप धारण करना,
क्रुद्ध होना; टेढ़ी-सीधी सुनाना—मली-
बुरी बातें सुनाना ।

टेढ़ाई—(हि. स्त्री.) टेढ़ापन ।

टेढ़ापन—(हि. पुं.) टेढ़ा होने का भाव ।

टेढ़े—(हि. अव्य.) धुमाव-फिराव के साथ,
पेचीली तरह से; (मुहा.)—टेढ़े जाना—
इतराकर चलना ।

टेना—(हि. क्रि. स.) शस्त्र को पैना या तेज
करने के लिये पत्थर आदि पर रगड़ना,
मुँछ के वालों को खड़ा करने के लिये
ऐँठना ।

टेनिस—(अं. पुं.) एक अंग्रेजी खेल ।

टेनी—(हि. स्त्री.) छोटी अँगूली; (मुहा.)
—मारना—तराजू को उँगलियों से दबा-
कर कम तौलना ।

टेम—(हि. स्त्री.) दीपक की ज्योति,
दीपशिखा, लौ; (पुं.) समय ।

टेर—(हि. स्त्री.) गान में ऊँचा स्वर,
तान, टीप, दूर से पुकारने का शब्द,
पुकार, हाँक ।

टेरक—(सं. पुं.) ऐँचाताना, भेंगा ।

टेरना—(हि. क्रि.स.) तान लेना, पुकारना,
बुलाना, पूरा करना, निवाहना, विताना ।

टेरवा—(हि. पुं.) हुक्के की नली ।

टेरा—(हि. पुं.) वृक्षस्तम्भ, पेड़ का घड़;
(वि.) ऐँचाताना ।

टेलिग्राफ—(अं. पुं.) तार भेजने का यंत्र
या व्यवस्था ।

टेलिग्राम—(अं. पुं.) टेलिग्राफ के द्वारा
भेजा हुआ समाचार, तार ।

टेलिप्रिटर—(अं. पुं.) वह यंत्र जिससे तार
से भेजे गये समाचार टाइप पर स्वयं
छपते जाते हैं ।

टेलिफोन—(अं. पुं.) वह यंत्र जो तार के
संबंध के द्वारा दूर-दूर रहनेवाले लोगों
में परस्पर बातचीत करने, सूचना
भेजने आदि में सहायक होता है ।

टेलिविजन—(अं. पुं.) सैकड़ों मील दूरी

पर रहनेवाली चीज या व्यक्ति को यंत्र के
पट्ट पर प्रत्यक्ष दिखलानेवाला यंत्र ।

टेव—(हि. स्त्री.) अभ्यास, वान ।

टेवकी—(हि. स्त्री.) नाव का सब से ऊपर
का छोटा पाल ।

टेवना—(हि. क्रि. स.) देखें 'टेना' ।

टेवा—(हि. पुं.) जन्मकुंडली, लग्नपत्रिका,
जन्मपत्री, वह लग्नपत्र जिसमें विवाह की
मिति, दिन, घटी, पल आदि लिखा रहता है ।

टेवैया—(हि. वि.) हथियार चोखा करने-
वाला ।

टेसू—(हि. पुं.) पलाश का फूल, ढाक का
फूल, लड़कों का एक उत्सव जिसमें वे
विजया-दशमी के दिन गाते हुए द्वार-द्वार
घूमते हैं ।

टैयाँ—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी
चिपटी कौड़ी, चित्ती ।

टैवसी—(अं. पुं.) किराये पर चलनेवाली
मोटरकार ।

टैन—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास जो
चमड़ा सिझाने के काम में आती है ।

टोंक—(हि. पुं.) रोक, विघ्न ।

टोंक (का)—(हि. पुं.) किनारा, सिरा, नोक ।

टोंग—(हि. पुं.) एक प्रकार की झाड़ी
जिसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है ।

टोंचना—(हि. क्रि. स.) चुमाना, गड़ाना ।

टोंट—(हि. स्त्री.) पक्षी की चोंच, ठोर ।

टोंटा—(हि. पुं.) पक्षी की चोंच के आकार
की पानी आदि गिराने के लिये पात्र में
लगी हुई नली, टोटी ।

टोंटी—(हि. स्त्री.) झारी या पात्र में
लगी हुई नली, पशुओं का थूथन ।

टोआ—(हि. पुं.) गत, गड़बा ।

टोइयाँ—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छोटा
सुग्गा जिसका ठोर पीला तथा कंठ
बंगनी रंग का होता है ।

टोई—(हि. स्त्री.) अँगूली की पोरा ।

टोक—(हि. स्त्री.) टोकने की क्रिया,
रोक, बाधा, प्रश्न करके बात-चीत
में बाधा डालना, बुरी दृष्टि का प्रभाव;
—टाक—(स्त्री.) पूछताछ करके बाधा
डालना; रोक-टोक—निपेच, रुकावट ।

टोकना—(हि. क्रि. स.) प्रश्न आदि करके
किसी कार्य में बाधा डालना, बीच में
बोल उठना, बुरी दृष्टि डालना, नजर
लगाना, आपत्ति या विरोध करना;
(पुं.) एक प्रकार का टोकरा, हंडा ।

टोकनी—(हि. स्त्री.) टोकरी, डलिया, पानी
रखने का हंडा, पात्र, बटलोई, डेगची ।

टोकरा—(हि. पुं.) खाँचा, झांवा, डला ।

टोकरी—(हि. स्त्री.) छोटा डला, झाँपी, झंपोली, बटलोई, देगची ।
 टोकवा—(हि. पुं.) नटखट बालक ।
 टोकसी—(हि. स्त्री.) नारियल की आधी खोपड़ी ।
 टोका—(हि. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा जो उर्द की उपज को हानि पहुँचाता है ।
 टोकारा—(हि. पुं.) स्मरण दिलाने के लिये कही हुई कोई बात ।
 टोटक—(हि. पुं.) देखें 'टोटका' ।
 टोटका—(हि. पुं.) तान्त्रिक प्रयोग, तंत्र-मन्त्र, टोना, लटका, वह काली हाँडी जो उपज में कुदृष्टि न लगने के लिये टाँग दी जाती है; (मुहा.)—करने आना—आकर तुरंत चला जाना ।
 टोटकेहाई—(हि. स्त्री.) जादू-टोना करने-वाली स्त्री ।
 टोटा—(हि. पुं.) बाँस का खंड, मोमवत्ती आदि का जलकर बचा हुआ शेष, कारतूस, घाटा, हानि, कमी, अभाव ।
 टोड़ा—(हि. पुं.) दीवार में गड़ी हुई खूँटी जो आगे की ओर लटकी हुई छाजन को सहारा देने के लिये लगाई जाती है, टोटा ।
 टोड़ी—(हि. स्त्री.) रागिनी का एक भेद ।
 टोनहा—(हि. वि.) जादू-टोना करनेवाला ।
 टोनहाई—(हि. स्त्री.) जादू-टोना करने-वाली स्त्री, जो स्त्री मंत्र पढ़कर झाड़-फूंक करती है, कुदृष्टि लगानेवाली स्त्री ।
 टोनहाया—(हि. पुं.) जादू-टोना करने-वाला मनुष्य, टोनहा ।
 टोना—(हि. पुं.) मन्त्र-तन्त्र का प्रयोग, जादू-टोना, एक प्रकार का गीत जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है, एक प्रकार की आखेटो चिड़िया; (क्रि.स.) छूना, हाथ से टटोलना ।
 टोनाहाई—(हि. स्त्री.) देखें 'टोनहाई' ।
 टोप—(हि. पुं.) सिर पर पहनने का बड़ा पहनावा, बड़ी टोपी, वह लोहे की टोपी जो लड़ाई के समय सिर की रक्षा के लिये पहनी जाती है, शिरस्त्राण, कूंड, खोल, अँगली पर पहिनने की घातु की टोपी, बुदा, बंद ।
 टोपन—(हि. पुं.) टोकरा, खाँचा ।
 टोपा—(हि. पुं.) बड़ी टोपी, स्वांग करने-वालों की लंबी टोपी, टोकरा, टाँका, डोभ ।
 टोपी—(हि. स्त्री.) सिर पर का पहनावा, राजमुकुट, ताज, कोई गोल ढक्कन जो टोपी जैसा हो, घातु की बनी हुई कटोरी जिसमें बंदूक के घोड़े का

आघात होने पर आग लगती है, बन्दूक का पड़ाका, आखेटो पशु के मुख पर चढ़ाई जानेवाली थली, —दार—(वि.) जिसमें टोपी लगी हुई हो; —वाला—(पुं.) वह दरजी जो टोपियाँ बनाता है, अहमद शाह और नादिर शाह की सेना के सिपाही जो टोपियाँ पहनकर भारतवर्ष में आये थे ।
 टोभ—(हि. पुं.) टाँका ।
 टोर—(हि. स्त्री.) शोरे की मिट्टी का पानी, कटारी ।
 टोरना—(हि. क्रि.स.) अलगाना, तोड़ना; (मुहा.) आँख टोरना—लज्जावश आँख छिपा लेना ।
 टोरा—(हि. पुं.) जुलाहे का रेशम तौलने का तराजू ।
 टोरा—(हि. पुं.) छिलका सहित अरहर का खड़ा दाना जो दाल में रह जाता है ।
 टोल—(हि. स्त्री.) समूह, मंडली, जत्था, झुंड, चटसाल, पाठशाला, सम्पूर्ण जाति का एक राग ।
 टोला—(हि. पुं.) महल्ला, बड़ी बस्ती का एक भाग, रोड़ा, पत्थर या ईंट का टुकड़ा, चोट से पड़ा हुआ चिह्न, बड़ी कौड़ी ।
 टोलिया—(हि. स्त्री.) छोटा मोहल्ला, टोली ।
 टोली—(हि. स्त्री.) बस्ती का छोटा भाग, समूह, झुंड, मंडली, जत्था, पत्थर की चौकीर पटिया, सिल, एक प्रकार का बाँस ।
 टोवना—(हि. क्रि. स.) टोना, टटोलना ।
 टोह—(हि. स्त्री.) अन्वेषण, खोज, ढूँढ़, देख-भाल; (मुहा.)—में रहना—खोज या फिराक म रहना;—लगाना या लेना—पता लगाना ।
 टोहना—(हि. क्रि. स.) खोजना, पता लगाना ।
 टोहाटाई—(हि. स्त्री.) अन्वेषण, छान-बीन, देख-भाल ।
 टोहिया, टोही—(हि. वि. पुं.) ढूँढ़नेवाला, भदिया, जासूस ।
 टौरना—(हि. क्रि. स.) जाँच करना, थाह लेना, पता लगाना ।
 ट्राम—(अं. पुं.) बड़े नगरों में सड़कों पर बिजली से चलनेवाली गाड़ी ।
 ट्रेन—(अं. स्त्री.) रेलगाड़ी ।

ठ

ठ—संस्कृत और हिन्दी वर्णमाला का बारहवाँ अक्षर, टवर्ग का द्वितीय वर्ण, इसका उच्चारण-स्थान मूर्धा है;

अर्थात् इसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग को तालू में लगान से होता है;—(सं. पुं.) शिव, महादेव, महाश्वनि, चन्द्रमण्डल, शून्य स्थान, लोक, गोचर या इन्द्रियग्राह्य वस्तु ।
 ठंठ—(हि. वि.) जिस वृक्ष की शाखा और पत्तियाँ कटकर या सूखकर गिर गई हों, ठूँठा, सूखा, परिवारशून्य, असहाय ।
 ठंठाना—(हि. क्रि. अं., स.) ठनठन शब्द होना या करना ।
 ठंठार—(हि. वि.) रिक्त, छुँछा, खाली ।
 ठंठी—(हि. स्त्री.) दाना पीटने के बाद बालों में लगा हुआ अनाज; (वि. स्त्री.) जिस गाय या भैंस को बच्चा न हो और जो दूध न देती हो, ठाँठ ।
 ठंठपाल—(हि. वि.) निर्धन, धनहीन ।
 ठंड, ठंडक—(हि. स्त्री.) देखें 'ठंड, ठंडक' ।
 ठंडा—(हि. वि.) देख 'ठंडा' ।
 ठंडई—(हि. स्त्री.) देख 'ठंडई' ।
 ठंड—(हि. स्त्री.) शीत, जाड़ा, ठंडक; (मुहा.)—पड़ना—शीत का जोर बढ़ना;—लगना—जाड़ा लगना ।
 ठंडई—(हि. स्त्री.) शरीर में ठंडक पहुँचानेवाले पदार्थ, भाँग, विजया, ठंडाई ।
 ठंडक—(हि. स्त्री.) उष्णता का अभाव, जाड़ा, तृप्ति, सन्तोष, प्रसन्नता, रोग या उपद्रव की शान्ति; (मुहा.)—पड़ना—शीत का आधिक्य होना, तृप्त होना, किसी उपद्रव की शान्ति होना ।
 ठंडा—(हि. वि.) शीतल, जिसमें उष्णता न हो, उद्गार-रहित, बुझा हुआ, उत्साह-हीन, नपुंसक, मन्द, उदासीन, गंभीर, शान्त, जिसको शीघ्र क्रोध न आता हो, विरोध न करनेवाला, धीमा, प्रसन्न, तृप्त, निश्चेष्ट, जड़, मरा हुआ, जिसमें चमक-दमक न हो; (मुहा.)—करना—शीतल करना, क्रोध के आवेग को शांत करना, तोड़ना, फेंकना, दीपक बुझाना, उपद्रव के आवेग को दबा देना;—होना—अन्त होना, मर जाना, चहल-पहल न होना, काम-काज मन्दा पड़ना ।
 ठंडाई—(हि. स्त्री.) शरीर की गरमी को शान्त करनेवाली दवा, ठंडई, पीसी हुई भाँग ।
 ठंडा मुलम्मा—(हि. पुं.) घातु की विना तपाये हुए उस पर सोना-चाँदी चढ़ाना ।
 ठंडी—(हि. वि. स्त्री.) शीतल; (स्त्री.) शीतला रोग, चेचक; (मुहा.)—साँस—(स्त्री.) दुःख भरी साँस;—ढलना—शीतला के दानों का धीरे-धीरे सूखना;—निकलना—शीतला रोग के दाने शरीर

पर निकल आना ।

ठंटे-ठंटे-(हि. अव्य.) विना विरोध के, आनन्द-से, बड़े तड़के ।

ठई-(हि. पुं.) स्थिति ।

ठक-(हि. स्त्री.) दो वस्तुओं के परस्पर टकराने का शब्द; (वि.) स्तब्ध, भीचक; (पुं.) चंडवाजों की अफीम का किमाम लगाने की सलाई; (मुहा.) -हो जाना-स्तब्ध होना, आश्चर्य या व्यग्रता से अवाक् हो जाना ।

ठकठक-(हि. स्त्री.) ठकठक का शब्द, प्रपंच, झंझट, झगड़ा, टंटा, बखेड़ा ।

ठकठकाना-(हि. क्रि. अ., स.) ठोकना, पीटना, ठकठक करना, खटखटाना ।

ठकठकाहट-(हि. स्त्री.) ठकठक शब्द ।

ठकठकिया-(हि. वि.) टंटा करनेवाला, बखड़िया; झगड़ाल ।

ठकठौआ(वा)-(हि. पुं.) एक प्रकार का करताल जिसको वजाकर भिखमंगे भीख माँगते हैं, एक प्रकार की छोटी हलकी नाव ।

ठकार-(सं. पुं.) "ठ" स्वरूप वर्ण ।

ठकुरई-(हि. स्त्री.) देखें 'ठकुराई' ।

ठकुरसुहाती-(हि. स्त्री.) दूसरों को प्रसन्न करने के लिये कही जानेवाली बातें, चाटूक्ति, चापलूसी ।

ठकुराइत-(हि. स्त्री.) देखें 'ठकुरायत' ।

ठकुराइन-(हि. स्त्री.) ठाकुर की स्त्री, स्वामिनी, गृहिणी, क्षत्रिय की स्त्री, क्षत्राणी, नाइन, नाउन ।

ठकुराई-(हि. स्त्री.) आधिपत्य, प्रभुत्व, सरदारी, प्रधानता, ठाकुर या जमींदार का अधिकार, उच्चता, महत्त्व, श्रेष्ठता, बड़ाई, बड़प्पन, राज्य ।

ठकुरानी-(हि. स्त्री.) ठाकुर की स्त्री, सरदारिन, रानी, स्वामिनी, अधीश्वरी, क्षत्रिय की स्त्री, क्षत्राणी ।

ठकुराय-(हि. पुं.) क्षत्रिय जाति का एक भेद ।

ठकुरायत-(हि. स्त्री.) प्रभुत्व, आधिपत्य, सरदारी, अधिकार, ठकुराई ।

ठकोरी-(हि. स्त्री.) साधुओं की कमर टेकने की विशिष्ट प्रकार की लकड़ी, वैरागिन ।

ठक्कर-(हि. स्त्री.) दो पदार्थों का परस्पर आघात, टक्कर ।

ठक्कुर-(हि. पुं.) देवप्रतिमा, पूजा करने की किसी देवता की मूर्ति, मैथिल तथा गुजराती ब्राह्मणों की एक उपाधि, देवता तथा ब्राह्मण तुल्य पूजनीय व्यक्ति ।

ठग-(हि. पुं.) डाकू, धोखा देकर किसी का धन हरनेवाला, धूर्त, छली, वंचक; (मुहा.)-लगाना-यात्रा में यात्रियों का ठगों द्वारा पीछा किया जाना, ठगों का आविष्य होना ।

ठगई-(हि. स्त्री.) ठगों का कार्य, छल, धूर्तता ।

ठगण-(सं. पुं.) पाँच मात्राओं का एक गण जो मात्रिक छन्दों में प्रयुक्त होता है ।

ठगना-(हि. क्रि. अ., स.) धोखा देकर किसी का धन छीन लेना, धूर्तता करना, छलना, धोखा देना, भुलावा देना, कोई माल बेचने में उचित से अधिक दाम लेना, ठगा जाना, धोखा खाना, लुट जाना, आश्चर्य से स्तब्ध होना, दंग होना; ठगा-सा-(वि.) भीचक, स्तब्ध, चकित, धोखा खाया हुआ ।

ठगनी-(हि. स्त्री.) ठग की स्त्री, वह स्त्री जो दूसरे को भुलावा देकर उसका माल छीन लेती है, धूर्त स्त्री, कुटनी ।

ठगपन, ठगपना-(हि. पुं.) ठगने या छलने का कार्य या भाव, कपट, छल, धूर्तता ।

ठगमरी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की विषेली जड़ी-बूटी जिसको खिलाकर पथिकों को अचेत करके ठग लोग लूटते थे; (मुहा.)-खाना-मतवाला होना, सुघ-बुघ खो बैठना, बेसुघ होना ।

ठगमोदक, ठगलाडू-(हि. पुं.) मादक पदार्थों को मिलाकर बनाया हुआ लड्डू जिसको ठग लोग किसी बहाने पथिकों को खिला देते थे और जब उसके खाने से पथिक मूर्छित हो जाता था तब उसका सर्वस्व हरण कर लेते थे; (मुहा.)-खाना-बेसुघ होना, स्तब्ध होना ।

ठगवाई-(हि. पुं.) ठगपन ।

ठगवाना-(हि. क्रि. स.) किसी को दूसरे से धोखा दिलवाना ।

ठगविद्या-(हि. स्त्री.) छल, कपट, धूर्तता ।

ठगहाई-(हि. स्त्री.) वंचकता, ठगपना ।

ठगहारी-(हि. स्त्री.) ठगपन, ठगी ।

ठगाई-(हि. स्त्री.) ठगपन, ठगी ।

ठगाठगी-(हि. स्त्री.) धूर्तता, ठगपना ।

ठगाना-(हि. क्रि. अ.) धोखे में आ जाना, ठगा जाना ।

ठगाही-(हि. स्त्री.) देखें 'ठगाई', ठगहाई ।

ठगिन, ठगिनी-(हि. स्त्री.) वह स्त्री जो दूसरे को धोखा देकर उसका धन लूटती है, ठग की स्त्री, धूर्त स्त्री, लुटेरिन ।

ठगिया-(हि. पुं.) धूर्त, छली, वंचक, ठग ।

ठगी-(हि. स्त्री.) ठग का काम, ठगने या लूटने का भाव, धूर्तता, चालवाजी ।

ठगीरी-(हि. स्त्री.) मोहित करने की शक्ति, जादू, टोना, छल, भुलावा, वंचकता ।

ठट-(हि. पुं.) भीड़, झुंड, जमावड़ा, समूह, पंक्ति, रचना, सजावट, वनावट; -के ठट-झुंड के झुंड, समुदाय म; (मुहा.) -लगाना-भीड़ लगाना, ढर लगाना ।

ठटकीला-(हि. वि.) ठाटदार, तड़क-भड़कवाला ।

ठटना-(हि. क्रि. अ., स.) स्थिर करना, निश्चित करना, ठहराना, सुसज्जित करना, आरंभ करना, छेड़ना, तैयार करना, गीत आरंभ करना, डरना, अड़ना; (मुहा.)-ठटकर बोलना-प्रत्येक शब्द पर जोर दे-देकर बोलना ।

ठटनि-(हि. स्त्री.) आडंबर, सजावट, वनाव ।

ठटरी-(हि. स्त्री.) अस्थिपंजर, हड्डियों का ढाँचा, किसी वस्तु का ढाँचा, घास-भूसा वाँधने का जाल, खरिया, मुरदा उठाने की अरथी; (मुहा.)-होना-अति दुर्बल होना, शरीर में केवल अस्थि-मात्र रह जाना ।

ठट्ट-(हि. पुं.) ठाटवाट, सजावट, शृंगार ।

ठट्ट-(हि. पुं.) समुदाय, समूह, झुंड, ठाट

ठट्टी-(हि. स्त्री.) ढाँचा, ठट्टरी, अस्थिपंजर ।

ठट्टई-(हि. स्त्री.) हँसी, परिहास, दिल्लगी, उपहास ।

ठट्टा-(हि. पुं.) हँसी, दिल्लगी, उपहास; (मुहा.)-उड़ाना-उपहास करना; -मारना या लगाना-खिलखिलाकर हँसना ।

ठट्टेवाज-(हि. वि.) उपहासक ।

ठट्टेवाजी-(हि. स्त्री.) उपहास ।

ठठ-(हि. पुं.) झुंड, जमावड़ा, समूह, ठट; -ई-(स्त्री.) उपहास, ठट्टा ।

ठठक-(हि. स्त्री.) अवरोध, रकावट, भय ।

ठठकना-(हि. क्रि. अ.) सहसा रुकना या ठहर जाना, विलकुल स्थिर हो जाना, स्तम्भित होना, भीचक रह जाना ।

ठठकान-(हि. स्त्री.) रकावट, अवरोध ।

ठठना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'ठटना' ।

ठठरा-(हि. पुं.) टट्टर, ओट ।

ठठरी-(हि. स्त्री.) देखें 'ठट्टरी' ।

ठठवा-(हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा वस्त्र, गजी ।

ठठा-(हि. पुं.) देखें 'ठट्टा' ।

ठठाई-(हि. स्त्री.) मारपीट, प्रहार ।

ठठाना—(हि. क्रि.अ.,स.) आघात करना, पीटना, ठोकना, ठट्ठा मारकर हँसना।
ठठरिन—(हि. स्त्री.) देखें 'ठठेरिन', ठठेरे की स्त्री।
ठठेरा—(हि. पुं.) पीतल, ताँबे आदि के पात्र बनानेवाला, कसेरा, ज्वार-बाजरे का डंठल; (मुहा.) ठठेरे-ठठेरे बदलाई—जैसे कौ तैसा व्यवहार, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार; ठठेरे की बिल्ली—ऐसा मनुष्य जो किसी खटके से नहीं डरता या घबड़ाता।
ठठेरिन—(हि. स्त्री.) ठठेरे की स्त्री।
ठठेरी—(हि. पुं.) वरतन बनाने का काम, ठठेरे का काम; —बाजार—(पुं.) जिस बाजार में ठठेरे पात्र आदि बनाते और बेचते हैं।
ठठोल—(हि. वि.पुं.) हँसी, उपहास, मसखरा, परिहास करनेवाला।
ठठोली—(हि. स्त्री.) उपहास, ठट्ठा।
ठठकना—(हि. क्रि. अ.) ठठकना।
ठठड़ा—(हि. वि.) खड़ा, सीधा स्थित।
ठठड़िया—(हि. पुं.) एक प्रकार का नैचा।
ठठड़ा—(हि. पुं.) पीठ की रीढ़ या हड्डी, पतंग (गुड्डों) के बीच की खड़ी सीक या तीली।
ठठड़ा—(हि. वि.) ठठड़ा, खड़ा।
ठठडिया—(हि. स्त्री.) काठ की ऊँची ओखली जिसमें खड़ा होकर घान कूटा जाता है।
ठठडियाना—(हि. क्रि. अ.) खड़ा होना।
ठठन—(हि. स्त्री.) धातु के किसी पदार्थ पर आघात का शब्द।
ठठक—(हि. स्त्री.) ढोल, मृदंग आदि की ध्वनि, रह-रहकर चोट आदि में होनेवाली पीड़ा, टीस।
ठठकना—(हि. क्रि.अ.) ठठठन शब्द होना, ढोल, तबला आदि वाजों का बजना, रह-रहकर पीड़ा होना, टीसना; (मुहा.) माया ठठकना—बुरा लक्षण देखकर चित्त व्यग्र होना, खटका उत्पन्न होना।
ठठका—(हि. पुं.) धातु के टुकड़े पर चोट मारने का शब्द, ठठक, टीस, एक-एककर होनेवाली पीड़ा।
ठठकाना—(हि. क्रि. स.) किसी धातु के टुकड़े, ढोल, मृदंग आदि पर चोट मारकर शब्द उत्पन्न करना, बजाना, रूपये को बजाकर परख करना; (मुहा.) रूपया ठठका लेना—बजाकर रूपया लेना, रूपया बसूल कर लेना।
ठठकार—(हि. पुं.) ठठका शब्द, धातु के टुकड़े से उत्पन्न शब्द।

ठठगन—(हि. पुं.) अड़, हठ, दुलार के कारण हठ।
ठठठन—(हि. पुं.) धातु-खंड के बजने का शब्द; —गोपाल—(पुं.) निःसार वस्तु, तुच्छ पदार्थ, निर्घन मनुष्य।
ठठठनाना—(हि. क्रि. अ., स.) ठठठन शब्द निकालना, ढोल आदि बजाना, रूपये को पटककर शब्द करना, ठठठन शब्द होना।
ठठना—(हि. क्रि. अ.) दृढ़ संकल्प से किसी कार्य को आरम्भ करना, पक्का होना, छिड़ना, तैयार होना, ठहरना, उद्यत होना, लगना, जमना, निश्चित होना।
ठठनाका—(हि. पुं.) ठठकार, ठठठन का शब्द।
ठठनाठन—(हि. अव्य.) निरन्तर ठठकार के साथ, ठठठन शब्द करते हुए।
ठठनाना—(हि. क्रि. स.) ('ठठना' का प्रेरणार्थक रूप, अ. क्वचित्) प्रयुक्त करना, लगाना, स्थापित करना, ठहराना, स्थित करना, जमाना, छेड़ना, आरम्भ करना, निश्चित करना, पक्का करना, तैयार करना।
ठठप—(हि. वि.) बंद।
ठठपा—(हि. पुं.) ठठकर, आघात, धक्का।
ठठपा—(हि. पुं.) साँचा, छापा, बेलवूटा आदि खुदा हुआ लकड़ी या धातु का टुकड़ा जिसमें रंग पोतकर कपड़े आदि पर छापा जाता है, एक प्रकार का गोटा।
ठठक—(हि. स्त्री.) चलते-चलते एक जाने का भाव, रुकावट, ठहराव, लचक की चाल।
ठठकना—(हि. क्रि. अ.) ठठकना, ठठकना, चलते चलते एक जाना, एक-एककर मटकते हुए चलना, हाव-भाव दिखलते हुए चलना।
ठठकाना, ठठकारना—(हि. क्रि. स.) ढोल आदि बजाना, चलते-चलते रोकना।
ठठना—(हि. क्रि. अ., स.) स्थिर करना, ठठनना, पूरी तरह से करना, चित्त में दृढ़ करना, निश्चित करना, दृढ़ निश्चय से आरम्भ करना, स्थापित करना, लगाना, नियुक्त करना, तैयार होना, जमना, लगना, प्रयुक्त होना, ठठना।
ठठन—(हि. स्त्री.) ठठरना, अधिक जाड़ा।
ठठना—(हि. क्रि. अ.) अधिक शीत से ठठरना, अधिक ठंड पड़ना, अधिक शीत के कारण हाथ-पैर सुन्न या चेतना-शून्य होना।
ठठरी—(हि. पुं.) बटा हुआ मोटा सूत, अधपकी ईंट, अँगिया का बन्द, टेढ़ा-मेढ़ा और भद्दा मोती, देशी शराब।
ठठलाना—(हि. क्रि. स.) गिराना।
ठठवन—(हि. स्त्री.) अंग-संचालन की

मुद्राएँ, बैठने, चलने आदि का ढंग।
ठठना—(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'ठठना'।
ठठनि—(हि. स्त्री.) ठठन, बैठने का ढंग, मुद्रा, आसन, स्थिति।
ठठर—(हि. पुं.) ठौर, स्थान, जगह।
ठठस—(हि. वि.) कड़ा, ठोस, भीतर से भरा हुआ, घनी विनावट का, दृढ़, भारी, सुस्त, मट्ठर, कृपण, कंजूस, हठी, घनादय, खोटा (रूपया) जिसमें से ठीक ठठकार न निकले।
ठठसक—(हि. स्त्री.) अभिमानपूर्ण चेष्टा, गर्व, अहंकार, एठन; —दार—(वि.) अभिमानी, घमंडी, शानदार तड़क-भड़कवाला।
ठठसका—(हि. पुं.) सूखी खाँसी जिसमें कफ नहीं निकलता, धक्का, ठठकर।
ठठसठस, ठठसाठस—(हि. अव्य.) ठठसकर भरा हुआ, खचाखच।
ठठसा—(हि. स्त्री.) नक्काशी करने की छोटी रखानी, ठठसक, अहंकार, गर्व, हावभाव, ठठबाट, शान, अभिमान।
ठठना—(हि. क्रि. अ.) घोड़े का हिनहिनाना, घंटे का बजना, ठठठनाना, एक-एक तथा सँमलकर कोई काम करना, सँवरना, बनाना; ठठकर-सँमलकर।
ठठनाना—(हि. क्रि. अ.) हिनहिनाना, ढोलक, तबले आदि का बजना, सँमल-सँमलकर आगे बढ़ना।
ठठर—(हि. पुं.) ठौर, स्थान, जगह, भोजन बनाने का स्थान, चौका, चूल्हे या चौके की लिपाई-पोताई; (मुहा.) —देना—चौका लगाना।
ठठरना—(हि. क्रि. अ.) गति बंद करना, रुकना, टिकना, स्थिर रहना, विश्राम करना, डरा डालना, इधर-उधर न डोलना, एक ही स्थान पर बना रहना, जमा रहना, टिका रहना, नष्ट न होना, प्रतीक्षा करना, पेंदी में जम जाना, थिराना, आसरा देखना, निश्चित होना।
ठठराई—(हि. स्त्री.) अधिकार, ठठरने की क्रिया या मजदूरी।
ठठराऊ—(हि. वि.) टिकाऊ, ठठरनेवाला, पुष्ट, अधिक काल तक रहनेवाला, निश्चय करानेवाला, दृढ़।
ठठराना—(हि. क्रि. स.) टिकाना, आश्रय देना, गति रोकना, डरा देना, रहने के लिये स्थान देना, हिलने-डोलने न देना, स्थिर करना, तय करना, अड़ाना, मूल्य स्थिर करना, विवाह सम्बन्ध पक्का करना।
ठठराव—(हि. पुं.) स्थिरता, दृढ़ विचार,

निश्चय ।

ठहरीनी—(हि. स्त्री.) विवाह-संबंध में तिलक, दहेज इत्यादि का लेन-देन स्थिर करना ।

ठहाका—(हि. पुं.) अट्टहास, जोर की हँसी, कहकहा ।

ठहियां—(हि. स्त्री.) ठाँव, ठिकाना, जगह ।

ठां—(हि. पुं.) बंदूक का शब्द, ठाँव, ठौर, स्थान, जगह ।

ठाईं—(हि. स्त्री.) स्थान, जगह; (अव्य.) निकट, पास, प्रति, तई ।

ठाउँ—(हि. पुं.) ठिकाना, ठाँव; (अव्य.) समीप, पास, निकट ।

ठाँठ—(हि. वि.) शुष्क, रसहीन, नीरस, दूध न देनेवाली (गाय, भैंस आदि) ।

ठाँठर—(हि. पुं.) ठटरी ।

ठाँयें—(हि. पुं. स्त्री.) ठौर, स्थान, ठिकाना, समीप, पास, बंदूक छूटने का शब्द ।

ठाँयें ठाँयें—(हि. स्त्री.) बंदूक छूटन का शब्द, विवाद, कलह, झगड़ा ।

ठाँव—(हि. स्त्री.) ठाँव, ठिकाना, जगह ।

ठाँसना—(हि. क्रि. अ., स.) कसकर ठूसना, दवा-दवाकर भरना, रोकना, मना करना, ढाँसना, ठनठन शब्द करते हुए खाँसना ।

ठाँहीं—(हि. पुं.) देखें 'ठाँई' ।

ठाकुर—(हि. पुं.) देवता, देवता की मूर्ति, परमेश्वर, पूज्य व्यक्ति, स्वामी, मालिक, अधिष्ठाता, सरदार, भूस्वामी, क्षत्रियों की एक उपाधि, नाऊ की एक उपाधि; -द्वारा—(पुं.) देवस्थान, किसी देवता का मन्दिर; -वाड़ी—(स्त्री.) देवस्थान, देवालय, मन्दिर; -सेवा—(स्त्री.) किसी देवता का पूजन, देवता को उत्सर्ग की हुई सम्पत्ति ।

ठाकुरी—(हि. स्त्री.) ठकुराई, शासन, अधिकार, स्वामित्व ।

ठाट—(हि. पुं.) ढाँचा, टट्टर, लकड़ी या बाँस की फट्टियों का बना हुआ टट्टर या परदा, शृंगार, वेश-रचना, प्रकार, शैली, ढव, आडंबर, घूमघाम, रचना, सजावट, दिखावट, सामग्री, सुख-सामग्री, उपाय, युक्ति, समूह, झुंड, अधिकता; (मुहा.) -खड़ा करना-ढाँचा तैयार करना; -बदलना-नया वेश धारण करना; -भारना-चैन से दिन बिताना ।

ठाटना—(हि. क्रि. स.) निर्माण करना, बनाना, ठानना, साजना, संवारना, ठाट बनाना ।

ठाटबंदी—(हि. स्त्री.) खपरल से छान के लिये बाँस का छाजन तैयार करना ।

ठाटवाट—(हि. पुं.) सजघज, शोभा, सजावट, शृंगार, तड़क-भड़क, आडम्बर ।

ठाटर—(हि. पुं.) टट्टी, ढाँचा, टट्टर, ठाटवाट, शृंगार, कबूतर के बैठने की छतरी ।

ठाठ—(हि. पुं.) देखें 'ठाट' ।

ठाठर—(हि. पुं.) नदी का वह गहरा भाग जहाँ पर मल्लाह की लगी नहीं पहुँचती, देखें 'ठाटर' ।

ठाड़ा—(हि. वि.) खड़ा, सीधा, खड़े बल का ।

ठाढ़, ठाड़ा—(हि. वि.) दंडायमान, सीधा, खड़ा, समूचा, उत्पन्न; (मुहा.)-देना-ठहरने का स्थान देना, ठहराना, ठिकाना ।

ठाढ़ेश्वरी—(हि. पुं.) एक प्रकार के साधु जो अहोरात्र खड़े रहने की तपस्या करते हैं ।

ठादर—(हि. पुं.) राढ़, झगड़ा ।

ठान—(हि. स्त्री.) किसी कार्यका आरंभ, छिड़ा हुआ काम, अनुष्ठान, हठ, दृढ़ संकल्प, चेष्टा, मुद्रा, आयोजन ।

ठानना—(हि. क्रि. स.) तत्परतासहित किसी काम को आरंभ करना, स्थिर करना, पक्का करना, ठहराना, चित्त में कोई विचार स्थिर करना ।

ठाना—(हि. क्रि. स.) ठानना, दृढ़ता के साथ आरंभ करना, निश्चित करना, स्थापित करना ।

ठाम—(हि. पुं.) स्थान, ठाँव, अंग-स्थिति, मुद्रा ।

ठायें—(हि. स्त्री.) ठाँव, ठाँयें ।

ठार—(हि. पुं.) अधिक शीत, गहरा जाड़ा, पाला, हिम ।

ठाल—(हि. स्त्री.) अवकाश, ठाला ।

ठाला—(हि. पुं.) काम-काज का न रहना, आमदनी बंद होना; (वि.) व्यवसायहीन; (मुहा.) बैठा ठाला-जिसके पास कोई काम करने के लिये न हो ।

ठाली—(हि. वि.) ठाला, बेकाम, निठल्ला ।

ठावें—(हि. स्त्री.) स्थान, जगह ।

ठावना—(हि. क्रि. स.) देख 'ठाना' ।

ठासना—(हि. क्रि. स.) देखें 'ठाँसना' ।

ठासा—(हि. पुं.) घातु की चद्दर मोड़ने का उपकरण ।

ठाहर—(हि. स्त्री.) स्थान, डेरा, रहने का स्थान, ठिकाना ।

ठाहरूपक—(हि. पुं.) मृदंग का एक ताल ।

ठागना—(हि. वि.) छोटे डील-डील का, नाटा ।

ठिकठन—(हि. पुं.) ठीकठाक व्यवस्था या प्रबंध ।

ठिकठौर—(हि. स्त्री.) ठीकरों से मरा हुआ स्थान ।

ठिकड़ा—(हि. पुं.) ठीकरा, मिट्टी के पात्र का टूटा हुआ अंश ।

ठिकना—(हि. क्रि. अ.) रुकना, अड़ना, ठहरना ।

ठिकरा—(हि. पुं.) देखें 'ठिकड़ा' ।

ठिकरी—(हि. स्त्री.) मिट्टी के पात्र का टूटा हुआ छोटा खंड ।

ठिकरीर—(हि. स्त्री.) वह स्थान जहाँ टूटे खपड़ों का बहुत-सा ढेर पड़ा हो ।

ठिकाना—(हि. पुं.) निवासस्थान, पता, आश्रयस्थान, ठौर, प्रबन्ध, स्थिरता, सीमा, निश्चय, उपाय, आयोजन; (क्रि. स.) ठहराना; (मुहा.)-करना-ठहरने की व्यवस्था करना, अन्त करना, सदेह मिटाना; -ढूँढ़ना-रहने के लिये जगह ढूँढ़ना; व्यापार की खोज करना; ठिकाने आना-निर्धारित स्थान पर पहुँचना; ठिकाने की बात-समझ की बात; ठिकाने नरहना-(मन) चंचल हो जाना; ठिकाने पहुँचना या लगाना-निर्धारित स्थान पर पहुँचना; -लगाना-न रहने देना, हत्या करना, नष्ट करना ।

ठिकने—(हि. स्त्री.) भयभीत अवस्था, घबड़ाहट ।

ठिकना—(हि. क्रि. अ.) एकाएक रुक जाना, ठमकना, ठक रह जाना, न हिलना, न डोलना, स्तब्ध होना ।

ठिकुर, ठिकुरन—(हि. स्त्री.) अधिक ठंड के कारण अकड़ या सिकुड़ना ।

ठिकुरना—(हि. क्रि. अ.) ठंड के कारण कांपना या सिकुड़ जाना ।

ठिकुरा—(हि. वि.) पाले से अकड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ ।

ठिठोलिया—(हि. वि.) मसखरा, उपहासी; -पन—(पुं.) उपहास ।

ठिठोली—(हि. स्त्री.) हँसी ।

ठिनकना—(हि. क्रि. अ.) छोटे बालकों का रुक-रुककर रोना ।

ठिर—(हि. स्त्री.) गहरी ठंड, पाला ।

ठिरना—(हि. क्रि. अ.) ठंड से ठिठुरना, अधिक शीत से अकड़ना, अधिक शीत पड़ना ।

ठिलना—(हि. क्रि. अ.) ठेला जाना, ढकेला जाना, घुसना, घँसना, जमना, बलपूर्वक खिसकाया जाना ।

ठिलवा—(हि. पुं.) मिट्टी का घड़ा ।

ठिलाठिल—(हि. अव्य.) एक पर एक गिरते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए ।

ठिलिया—(हि. स्त्री.) मिट्टी की छोटी गगरी, मटकी।
 ठिलुआ—(हि. वि.) निकम्मा, निठरला।
 ठिल्ला—(हि. पुं) घड़ा, गगरा, पानी रखने का मिट्टी का पात्र।
 ठिल्ली—(हि. स्त्री.) ठिलिया, छोटी गगरी।
 ठिहार—(हि. वि.) विश्वसनीय, विश्वास के योग्य।
 ठिहारी—(हि. स्त्री.) ठहरौनी, ठहराव, निश्चय।
 ठीक—(हि. वि.) उपयुक्त, यथार्थ, यथोचित, प्रामाणिक, उचित, निश्चित, अच्छा, शुद्ध, विना त्रुटि का, (कांटा आदि) अच्छी तरह से बैठनेवाला, ठहराया हुआ, निर्दिष्ट, पक्का, स्थिर, जो बिगड़ा न हो, योग्य, जोड़ का, सीधा, नम्र; (मुहा.)—आना—बराबर होना, डीला या कसा हुआ न होना;—उतरना—न्यूनाधिक न होना;—करना—सुधारना, शोधना, शुद्ध करना;—इतना—चित्त में स्थिर करना, जोड़ना;—बनाना—दुरुस्त करना; (अव्य.) व्यवस्थित रूप से, उचित रीति से, अच्छी तरह से।
 ठीक-ठाक—(हि. पुं.) व्यवस्था, उचित प्रवन्ध, पक्की बात, ठौर, ठिकाना; (वि.) प्रस्तुत, बनकर तैयार; (मुहा.)—करना—व्यवस्था करना।
 ठीकड़ा, ठीकरा—(हि. पुं.) मिट्टी के पात्र का टूटा-फूटा अंश, टूटा-फूटा पात्र, भीख माँगने का पात्र; (मुहा.) (स्त्रि पर)—फोड़ना—कलंक लगाना, दोषी ठहराना;—समझना—तुच्छ समझना।
 ठीकरो—(हि. स्त्री.) टूटे हुए मिट्टी के बरतन का छोटा टुकड़ा, योनि का उभड़ा हुआ तल, उपस्थ, तुच्छ पदार्थ।
 ठीका—(हि. पुं.) किसी व्यक्ति को किसी निर्धारित समय में कोई काम पूरा करने के लिये उत्तरदायी बनाना, कुछ समय के लिये किसी को कर, लगान आदि वसूल करने का अधिकार देना, पट्टा।
 ठीकुरी—(हि. स्त्री.) परदा।
 ठीकेदार—(हि. पुं.) ठीका लेनेवाला मनुष्य।
 ठीकेदारिन—(हि. स्त्री.) ठीकेदार की स्त्री।
 ठीठी—(हि. स्त्री.) हँसी का शब्द।
 ठीलना—(हि. क्रि. स.) ठेलना, ढकेलना।
 ठीवन—(हि. पुं.) थूक, खखार।
 ठीहँ—(हि. स्त्री.) धोड़की हिनहिनाहट।
 ठीहा—(हि. पुं.) भूमि में गड़ा हुआ लकड़ी का कुन्दा जिसपर वस्तुओं को रखकर कसेरा, बढ़ई, सोनार आदि पीटने या ठोकने का काम करते हैं, बढ़ईयों का लकड़ी गढ़ने

का आधार, बैठने के लिये ऊँचा किया हुआ स्थान, सीमा, गद्दी, हद; (मुहा.)—जमना—काम ठीक-ठीक होने की सुविधा होना।
 ठुंठ—(हि. पुं.) वृक्षस्तंभ, वह वृक्ष जिसकी डाल और पत्तियाँ गिर गई हों या काटी गई हों, कटे हुए हाथवाला मनुष्य, लूला।
 ठुक्ना—(हि. क्रि. अ.) आघात सहना, पीटा जाना, मार खाना, मारा जाना, गड़ना, दबना, चोट खाकर घँसना, हानि होना, गले पड़ना, फँसना, पैर में वैड़ी पड़ना, घाटा लगना।
 ठुकराना—(हि. क्रि. स.) ठोकर मारना, लात से मारना, पैर से मारकर हटाना, तुच्छ समझना, तिरस्कार करना, उपेक्षा करना।
 ठुक्वाना—(हि. क्रि. स.) पीटवाना, दूसरे से मार खिलवाना, गड़वाना, घँसवाना, ठोकने का काम करवाना।
 ठुड्डी—(हि. पुं.) चिबुक, निचले ओठ की जड़, ठोड़ी, अन्न का मुना दाना जिसका छिलका अलग न हुआ हो, ठोरी।
 ठुनरु—(हि. स्त्री.) बच्चों की सिसकी।
 ठुनकना—(हि. क्रि. अ., स.) ठुनकाना, अँगुली से ठोकना, ठिनकना।
 ठुनकाना—(हि. क्रि. स.) अँगुली से धीरे-धीरे आघात करना या ठोकना।
 ठुनठुन—(हि. पुं.) बच्चों के रोने का शब्द।
 ठुमक—(हि. वि.) पैर पटकते हुए बच्चों-सी (चाल), ठसक भरी हुई (चाल)।
 ठुमकना—(हि. क्रि. अ.) प्रसन्नता-पूर्वक या नाचने में धीरे-धीरे पैर पटक-पटक कर चलना, कूदते हुए चलना।
 ठुमका—(हि. वि.) छोटे डीलडौल का, नाटा, ठिंगना; (पुं.) पतंग (गुड्डी) की डोर को झटका देना।
 ठुमकारना—(हि. क्रि. स.) गुड्डी की डोरी को झटका देना।
 ठुमकी—(हि. स्त्री.) ठुमका, झटका, ठिठक, मन्द गति; (वि. स्त्री.) छोटे कद, नाटी।
 ठुमरी—(हि. स्त्री.) दो बोलों का छोटा गीत।
 ठुरी—(हि. स्त्री.) छिलकेदार न खेला हुआ भूना दाना, ठोरी।
 ठुरियाना—(हि. क्रि. अ.) ठुरी बन जाना, (सर्दों से) सिकुड़ना।
 ठुसकना—(हि. क्रि. अ.) ठिनककर रोना, मन्द स्वर में या धीरे से बोलना।
 ठुसकी—(हि. स्त्री.) अपान वायु का धीरे से निकलना, धीरे से पादना।

ठुसना—(हि. क्रि. अ.) कसकर प्रविष्ट किया या भरा जाना।
 ठुसवाना—(हि. क्रि. स.) कसकर भरवाना।
 ठुसाना—(हि. क्रि. स.) भरवाना, कसाना, ठुसवाना, अधिक भोजन कराना।
 ठुस्ती—(हि. स्त्री.) देखें 'ठुसकी', एक प्रकार का गले का आभूषण।
 ठुंग—(हि. स्त्री.) चोंच, चोंच मारने की क्रिया।
 ठुंठ—(हि. पुं.) शाखा तथा पत्रहीन वृक्ष, सूखा हुआ पेड़, कटा हुआ हाथ, जुआर, वाजरा आदि की उपज काट लेने के बाद बची हुई खुर्ची।
 ठुंठा—(हि. वि., पुं.) विना शाखा और पत्तियों का (वृक्ष), विना हाथ का, लूला।
 ठुंठिया—(हि. वि.) लूला, लँगड़ा, हिजड़ा।
 ठुंठी—(हि. स्त्री.) अरहर, वाजरा आदि को जड़ से काटने पर बची हुई खूंट।
 ठुंसना—(हि. क्रि. स.) देखें 'ठुसना', धुसाना, अच्छी तरह कसकर भरना, बलपूर्वक डालना, पेट भर खाना।
 ठुसना—(हि. क्रि. स.) कसकर भरना, देखें 'ठुसना'।
 ठुंउना—(हि. पुं.) ठेहना, घुटना।
 ठुंगना—(हि. वि.) छोटे डील का, नाटा।
 ठुंगा—(हि. पुं.) अँगूठा, डंडा, सोंटा; (मुहा.)—दिखाना—निराश करना; आशिष्टतापूर्वक अस्वीकार करना;—ब्रजना—लड़ाई-झगड़ा होना, लाठी चलना; ठुंगे से—बला से।
 ठुंगाठुंगी—(हि. अव्य.) आपस की मार-पीट।
 ठुंगुर—(हि. पुं.) उत्पाती चौपायों के गले में बाँधने का लकड़ी का बड़ा टुकड़ा।
 ठुंघा—(हि. पुं.) देखें 'ठगा'।
 ठुंठ—(हि. वि.) देखें 'ठंठ'।
 ठुंठी—(हि. स्त्री.) कान का मूल, कान के छेद को बन्द करने की रूई आदि; वोतल म लगाने का डट्टा, काग; (मुहा.) कान को ठुंठी लगाना—किसी की बात न सुनना।
 ठुंपी—(हि. स्त्री.) काग, डाट, टेंठी।
 ठेक—(हि. पुं.) सहारा, टेक, अवलंब, चाँड़, पच्चड़, तल, पेदी, टट्टियों से घिरा हुआ अन्न रखने का स्थान, लाठी में लगी हुई सामी, घोड़े की एक विशेष चाल, पच्चड़, चकती।
 ठेकना—(हि. क्रि. अ.) टेकना, सहारा लेना, ठहरना, रहना, टिकना।
 ठेका—(हि. पुं.) देखें 'ठीका', सहारा लेने का अवलंब, ठहरने का स्थान, अड्डा, टेक, चाँड़, रुकने का स्थान, धक्का,

ठोकर, तवले का वायां डुगी, मृदंग, तबले आदि का एक बोल; (मुहा.)—भरना—उछल-कूद मचाना।

ठेकाई—(हि. स्त्री.) काले किनारे की छपाई।

ठेकाना—(हि. पुं.) निवास-स्थान।

ठेकी—(हि. स्त्री.) टेक, चाँड़, सहारा।

ठेगना—(हि. क्रि. अ., स.) सहारा लेना, विश्राम के लिये सिर के बोज को टकना, रोकना, मना करना।

ठेगनी—(हि. स्त्री.) सहारा लेने या टेकने की लकड़ी।

ठेघना—(हि. स्त्री.) देखें 'ठेगना'।

ठेघनी—(हि. स्त्री.) देखें 'ठेगनी'।

ठेघा—(हि. पुं.) सहारा, धूनी, चाँड़।

ठेठ—(हि. वि.) विना मेल का, निर्मल, असाहित्यिक, अकृत्रिम; (स्त्री.) सीधी-सादी बोली जिसमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग न हो।

ठेपी—(हि. स्त्री.) बोटल, शीशी आदि का मुँह बन्द करने का डट्टा।

ठेलना—(हि. क्रि. स.) ढकेलना, रेलना, धक्का देकर आगे बढ़ाना।

ठेलमठेल—(हि. अव्य.) एक के ऊपर एक गिरते हुए; (स्त्री.) ठेलाठेल।

ठेला—(हि. पुं.) टक्कर, धक्का, पीछे की ओर से आघात, एक प्रकार की गाड़ी जिसको आदमी ठेलकर चलाते हैं, भीड़-भाड़, धक्कामधक्का।

ठेलाठेल, ठेलाठेली—(हि. स्त्री.) भीड़ में मनुष्यों का एक के ऊपर दूसरे का गिरना, धक्कामधक्का।

ठेवका—(हि. पुं.) खेत सींचने के लिये दौरी का पानी गिराने का गड्ढा।

ठेवकी—(हि. स्त्री.) ओट, गिरने से रोकने या टिकाने के लिये प्रयुक्त वस्तु।

ठेवना—(हि. पुं.) जानु, घुटना।

ठेस—(हि. स्त्री.) आघात, ठोकर, चोट, धक्का।

ठेसना—(हि. क्रि. स.) ठूसना, दवाकर भरना।

ठेहरी—(हि. स्त्री.) किवाड़ की चूल के नीचे लगी हुई, लकड़ी, आश्रय, सहारा।

ठेहुका—(हि. पुं.) वह चौपाया जिसके पिछले पैर चलने में आपस में टकराते हैं।

ठेहना—(हि. पुं.) देखें 'घुटना'।

ठैकर—(हि. पुं.) नीबू की तरह का एक खट्टा फल।

ठैन—(हि. स्त्री.) जगह, स्थान।

ठैयां—(हि. स्त्री.) स्थान।

ठोंक—(हि. स्त्री.) आघात, प्रहार, चोट।

ठोंकना—(हि. क्रि. स.) पीटना, आघात करना,

मारना-पीटना, थपथपाना, बेड़ी लगाना, गाड़ना, अभियोग लगाना, खटखटाना, कसकर जकड़ना, हाथ से मारकर शब्द उत्पन्न करना; (मुहा.) ठोंक-ठोंककर लड़ना—ताल ठोंक-ठोंककर लड़ना;—बजाना—जाँचना, परखना।

ठोंग—(हि. स्त्री.) चोंच, चोंच की मार, मुड़ी हुई उँगलियों से मार।

ठोंगा—(हि. पुं.) कागज का बना थैली जैसा पात्र जिसमें दुकानदार सामान देते हैं।

ठोंठा—(हि. पुं.) ज्वार, बाजरा तथा ऊख की उपज को हानि पहुँचानेवाला कीड़ा।

ठोंठी—(हि. स्त्री.) फली, बोड़ी, हरे चने के दाने का कोष।

ठों—(हि. अव्य.) पूरबी हिंदी का संख्या-वाचक शब्दों के साथ लगनेवाला शब्द।

ठोकना—(हि. क्रि. स.) देखें 'ठोंकना'।

ठोकर—(हि. स्त्री.) किसी कड़ी वस्तु से टकराने से अंग में चोट लगना, ठेस, जूते का नुकीला भाग, मार्ग में पड़ा हुआ कंकड़-पत्थर जिससे टकराने से पैर में चोट लग जाती है, परसे धक्का या

आघात; (मुहा.)—उठाना—कष्ट झेलना;—खाते फिरना—व्यर्थ मारा-मारा फिरना;—खाना—असावधानी

के कारण कष्ट उठाना;—निकलना—गाल की हड्डी का उभड़ आना;

—लगना—ठेस खाना, किसी वस्तु से टकराकर गिर पड़ना।

ठोकरा—(हि. वि.) कठिन, कड़ा।

ठोकराना—(हि. क्रि. अ., स.) जूते की नोक से प्रहार करना, ठोकर खाना।

ठोकवा—(हि. पुं.) चीनी, गुड़ आदि की बनी मोटी पूरी।

ठोट—(हि. वि.) निःसत्व, नीरस, मूर्ख।

ठोठरा—(हि. वि.) रिक्त, पोला।

ठोड़ी, ठोढ़ी—(हि. स्त्री.) चिवुक, ठुड्डी, दाढ़ी।

ठोप—(हि. पुं.) बिन्दु, बूँद।

ठोर—(हि. पुं.) चंचु, चोंच, एक प्रकार का मीठा पकवान।

ठोली—(हि. स्त्री.) ठिठोली।

ठोस—(हि. वि.) जो भीतर से खोखला न हो, घन, पुष्ट, दृढ़; (पुं.) ईर्ष्या, डाह।

ठोसा—(हि. पुं.) हाथ का अँगूठा, ठंगा; (मुहा.)—दिखाना—अस्वीकार करना।

ठोहना—(हि. क्रि. स.) पता लगाना, ठिकाना खोजना।

ठोहर—(हि. पुं.) अकाल, महँगी।

ठोंका—(हि. पुं.) खेत में वह गड्ढा जहाँ

दौरी से उछालकर सिंचाई का पानी गिराया जाता है।

ठौनि—(हि. स्त्री.) स्थिति, स्थान, देखें 'ठवनि'।

ठौर—(हि. पुं.) ठिकाना, स्थान, अवसर, ठोर नामक मीठा पकवान;

—ठिकाना—पता-ठिकाना;—कुठौर—भले तथा बुरे स्थान पर; (मुहा.)—न आना—

पास में न आना;—रखना—उसी स्थान पर मारकर गिरा देना;—रहना—जहाँ का तहाँ रहना, मर जाना; किसी के ठौर—

किसी के स्थानापन्न, किसी के समान।

ड

ड—संस्कृत तथा देवनागरी वर्णमाला का तेरहवाँ व्यंजन तथा ट-वर्ग का तीसरा अक्षर, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है अर्थात् जीम के

मध्य भाग को ताल में लगाने से होता है।

डंक—(हि. पुं.) वह विपैला काँटा जो बिच्छू, मधुमक्खी, वरुँ आदि कीड़ों के पीछे की ओर होता है और जिसको वे जीवों के शरीर में चुभा देते हैं, लेखनी की जीभी, वह स्थान जहाँ डंक मारा गया

हो;—दार—(वि.) जिसमें डंक हो।

डंकना—(हि. क्रि. अ.) गरजना, डरावना शब्द उत्पन्न करना।

डंका—(हि. पुं.) एक प्रकार का नगाड़ा, जहाज के ठहरने का स्थान; (मुहा.) डंके की चोट कहना—सब के सम्मुख स्पष्ट शब्दों में कहना।

डंकिनी—(हि. स्त्री.) देखें 'डाकिनी'।

डंकी—(हि. स्त्री.) मलखंभ का एक व्यायाम, मल्लयुद्ध की एक युक्ति।

डंकुर—(हि. पुं.) प्राचीन समय का एक प्रकार का वाजा।

डंगर—(हि. पुं.) चौपाया, गाय, भैंस आदि; (वि.) दुबल-पतला, निर्बल।

डंगरी—(हि. स्त्री.) लंबी ककड़ी, एक प्रकार का मोटा वेंत, चुड़ैल, डाइन।

डंगदारा—(हि. पुं.) वह सहायता जो किसान जोआई-बोआई में परस्पर लेते-देते हैं, हँड।

डंगोरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कड़ी लकड़ी का वृक्ष।

डंढ्या—(हि. वि.) डाँटने या घुड़कनेवाला, धमकानेवाला।

डंठल—(हि. पुं.), डंठी—(हि. स्त्री.) पौधों की शाखा या पेड़ी।

डंड-(हि. पुं.) लाठी, सोंटा, डंडा, वाहु-
दंड, बाँह, एक प्रकार का व्यायाम जो
हाथ-पैरके पंजों तथा पेट के बल किया
जाता है, अर्थदंड, हानि, देखें 'दंड';
-पेल-(पुं.) व्यायाम करनेवाला, पहल-
वान, बलवान मनुष्य; (मुहा.)-पेलना-
व्यायाम करना।

डंडू-(हि.पुं.) देखें 'डंड'।

डंडक-(हि. पुं.) देखें 'दंडक'।

डंडल-(हि.स्त्री.) एक प्रकार की मछली।

डंडवत्-(हि. पुं.) देखें 'दंडवत्'।

डंडवारा-(हि. पुं.) वह नीची भीत जो
किसी स्थान को घेरने के लिये बनाई
जाती है, चहारदीवारी।

डंडवारी-(हि. स्त्री.) किसी स्थान को
घेरने के लिए उठाई हुई नीची भीत।

डंडहरा-(हि. स्त्री.) द्वार में ताला लगाने
के लिये जड़ा हुआ लोहे या पीतल का
छड़ या डंडा।

डंडवी-(हि. पुं.) दंड या कर देनेवाला।

डंडहिया-(हि. पुं.) वह डंडा जिसमें बेल
की पीठ पर दोनों ओर लदे हुए वीरे
फँसाये जाते हैं।

डंडा-(हि. पुं.) लकड़ी, बाँस आदि का
लंबा सीधा टुकड़ा, सोंटा, लाठी, मोटी,
छड़ी, डाँड़ा, डंडवारा।

डंडाकरन-(हि. पुं.) देखें 'दंडक-वन'।

डंडाल-(हि. पुं.) दुन्दुभी, नगाड़ा।

डंडिया-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की साड़ी
जिसमें गोठ सिलकर लंबी लकीरों-जैसी
वनी हों, गेहूँ के पौधे की लंबी सीक जिसमें
बाल लगती हैं; (पुं.) कर उगाहनेवाला
मनुष्य।

डंडियाना-(हि. क्रि. स.) दो कपड़ों को
लंबाई के बल एक में सिलना।

डंडी-(हि. स्त्री.) छोटी, पतली और लंबी
लकड़ी, किसी अस्त्र की मुठिया, हत्था,
तराजू की वह लकड़ी जिसमें रस्सियों
से पलड़े बंधे हुए होते हैं, पत्ता, फूल
या फल लगा हुआ वृक्ष का डंडल, ताल,
हर्रासगार का फूल, एक प्रकार की
पहाड़ी सवारी, झपान, लिंगेन्द्रिय, वह
संन्यासी जो दण्ड धारण करता हो, दंडी;
(वि.) झगड़ा लगानेवाला, चूगल-
खोर; -मार-(पुं.) टेनी मारनेवाला;
(मुहा.)-मारना-टेनी मारना, कम
सौदा तौलना।

डंडीर-(हि. स्त्री.) सीधी रेखा या लकीर।

डंडोरना-(हि. क्रि. स.) उलट-पुलटकर
खोजना या हँदना।

डंडौत-(हि. पुं.) देखें 'दंडवत्'।

डंडर-(हि. पुं.) हकोसला, आडम्बर, एक
प्रकार का चंदवा, विस्तार; अंबर-
डंडर-(पुं.) सन्ध्या के समय आकाश में
दिखाई पड़नेवाली लाली।

डंडरुआ-(हि. पुं.) एक प्रकार का वात-
रोग, गठिया।

डंडरू-(हि. पुं.) डमरू।

डंडाडोल-(हि. वि.) चंचल, घबड़ाया हुआ।

डंडस-(हि. पुं.) जंगली मच्छड़, डाँस,
वह स्थान जहाँ पर विपैले कीड़े या जंतु
का डंक चुभा हो या दाँत चुमा हो।

डंडसना-(हि. क्रि.स.) देखें 'डंसना'।

डंडइत-(हि. पुं.) डकैत।

डंडकरना-(हि. क्रि.अ.) डकार लेना, साँड़
या बेल जैसा बोलना।

डंडकरा-(हि.पुं.) एक प्रकार की काली मिट्टी।

डंडकराना-(हि.क्रि.अ.) डकरना, बेल या
मैस का बोलना।

डंडकार-(सं.पुं.) 'ड' स्वरूप अक्षर, 'ड'वर्ण।

डंडकार-(हि.स्त्री.) मुख से वायु का निक-
लनेवाला उद्गार, सिंह, वाघ आदिकी
गरज, दहाड़, सिंह-नाद; (मुहा.)-
जाना-किसी का धन दबा लेना; -न
लेना-चुपपी साध लेना।

डंडकारना-(हि. क्रि. अ.) मुख से पेट की
वायु का निकलना, डकार लेना, किसी
का धनपचा जाना, व्याघ्र, सिंह आदि
का गरजना।

डंडकैत-(हि. पुं.) बलपूर्वक दूसरे का माल
छीननेवाला, लुटेरा, डाकू।

डंडकैती-(हि. स्त्री.) डाकू का काम,
लुटमार, छाप।

डंडकौत-(हि.पुं.) ढोंगी ज्योतिषी।

डंडकारी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का
छोटा ढोल।

डंडग-(हि. पुं.) उतनी दूरी जितने पर एक
पग से दूसरे पग पर पैर पड़े, फाल, कदम;
(मुहा.)-डेना-चलते समय आगे की
ओर पैर रखना; -मारना-लंबे-लंबे पग
डालना।

डंडगगाना-(हि.क्रि.अ.) लड़खड़ाता, डग-
मग होना, हिलना, डोलना, काँपना।

डंडगडोलना-(हि.क्रि.अ.) देखें 'डगमगाना'।

डंडगडौर-(हि. वि.) चलायमान, हिलने-
वाला, देखें 'डँदाडोल'।

डंडगण-(सं. पुं.) छन्दःशास्त्र के अनुसार
पाँच भागों में विभक्त एक गण।

डंडगना-(हि. क्रि. अ.) हिलना, खिसकना,
स्थान छोड़ना, डिगना।

डंडगगाना-(हि. क्रि. अ.) इधर-उधर
डोलना, विचलित होना, किसी बात
पर स्थिर न रहना, थरथराना।

डंडगर-(हि. स्त्री.) मार्ग, पथ।

डंडगरना-(हि. क्रि. अ.) चलना, लुढ़कना।

डंडगरा-(हि. पुं.) मार्ग, टोकरा, बाँस का
वना हुआ छिछला पात्र, छवड़ा।

डंडगा-(हि. पुं.) नगाड़ा वजाने की लकड़ी।

डंडगाना-(हि. क्रि. स.) देख 'डिगाना'।

डंडगर-(हि. पुं.) एक प्रकार का हिल
पशु, लंबे तथा पतले पैर का घोड़ा।

डंडटना-(हि. क्रि. अ., स.) स्थिर रहना,
अड़ना, ठहरा रहना, स्पर्श होना,
छू जाना, मिड़ना, देखना, लग जाना।

डंडटाई-(हि. स्त्री.) डटाने का काम।

डंडटाना-(हि. क्रि. स.) डटने को प्रेरित
करना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से
लगाना, खड़ा करना, जमाना, सटाना।

डंडट्टा-(हि. पुं.) हुक्का का नचा, डट,
काग, बड़ी मेख, ठप्पा, साँचा।

डंडट्टार-(हि. वि.) बड़ी दाढ़ीवाला,
दड़ियल, साहसी, वीर।

डंडट्टन-(हि. स्त्री.) देखें 'जलन', संताप।

डंडट्टना-(हि. क्रि.अ.) जलना, झुलसना।

डंडट्टार, डंडट्टारा-(हि. वि., पुं.) वह जिसके
डाढ़ें हों, डाढ़वाला, जिसके दाढ़ी हो।

डंडट्टियल-(हि. वि.) जिसके बड़ी दाढ़ी
हो, दाढ़ीवाला।

डंडट्टयारा-(हि. वि.) दड़ियल, दाढ़ीवाला।

डंडपट-(हि. स्त्री.) डाँट, झिड़की, घुड़की,
घोड़े की सरपट चाल।

डंडपटना-(हि. क्रि.स.) क्रोध में कठोर स्वर
में बोलना, डाँटना, वेग से दौड़ना।

डंडपोरशं(सं)ख-(हि. पुं.) अपनी झूठी
वड़ाई करनेवाला, वह जो देखने में बड़े
डीलडौल का हो परन्तु निर्दुद्धि हो,
वह जो कहे पर करे नहीं।

डंडफ-(हि. पुं.) चमड़ा मड़ा हुआ एक
प्रकार का बाजा, डफला, चंग बाजा,
(जिसको वजाकर लोग लावनी गाते हैं।)

डंडफला-(हि. पुं.) डफ नाम का बाजा।

डंडफली-(हि. स्त्री.) छोटा डफ खँजड़ी;
(मुहा.) अपनी अपनी डफली अपना

अपना राग-अलग अलग आदमियों की
अलग-अलग सम्मतियाँ।

डंडफार-(हि. स्त्री.) चिल्लाने या रोने का
शब्द, चिघाड़।

डंडफारना-(हि. क्रि. अ.) जोर से चिल्लाना
या रोना।

डंडफालची, डफाली-(हि. पुं.) वह जो डफ

वजाता हो ।

डफोरना—(हि. क्रि. अ.) ललकारना, पुकारना ।

डव—(हि. पुं.) थैला, जेब, वह चमड़ा जिससे कुप्पा बनाया जाता है ।

डवकना—(हि. क्रि. अ., स.) धातु की चट्टर को कटोरी के आकार का गहरा बनाना, पीड़ा होना, टीसना, टपकना ।

डवकौहाँ—(हि. वि.) आँसू भरा हुआ, डवडवाया हुआ ।

डवडवाना—(हि. क्रि. अ.) अश्रुपूर्ण होना, आँखों में आँसू भर आना; (मुहा.) आँखें डवडवाना—आँखों में आँसू भर आना ।

डवरा—(हि. पुं.) पानी जमा रहने का छिछला गड्ढा, कुंड, खेत का खजारा भाग ।

डवरी—(हि. स्त्री.) छोटा गड्ढा ।

डवल—(हि. पुं.) पैसा; -रोटी—(स्त्री.) पावरोटी ।

डवला—(हि. पुं.) कुल्हड़, मिट्टी का छोटा पात्र ।

डवी—(हि. स्त्री.) डिव्वी, डिविया ।

डवोना—(हि. क्रि. स.) वोरना, डुवाना, नष्ट करना, विगाड़ना ।

डव्वा—(हि. पुं.) किसी वस्तु को रखने का ढपनेदार छोटा पात्र, रेलगाड़ी की एक कोठरी ।

डव्वू—(हि. पुं.) खाने-पीने की वस्तु परोसन का डंडी लगा हुआ एक प्रकार का कटोरा ।

डभकना—(हि. क्रि. अ.) पानी में डूबना-उतराना ।

डभका—(हि. पुं.) कौरा हुआ चना या मटर, कुएँ से निकाला हुआ ताजा पानी ।

डभकौरी—(हि. स्त्री.) उडद की पीठी की बरी ।

डभर—(सं. पुं.) डर के कारण भगदड़, उपद्रव, हलचल ।

डभरू—(सं. पुं.) एक वाजा जो बीच में पतला तथा किनारों पर चौड़ा होता है; (इन्हीं चौड़े भागों पर चमड़ा मढ़ा होता है। इसके बीच में एक डोरी बँधी रहती है तथा डोरियों के सिरों पर दो कौड़ियाँ बँधी रहती हैं। इसको इधर-उधर हिलाने से शब्द होता है); वह वस्तु जो बीच में पतली तथा दोनों ओर बराबर चौड़ी होती गई हो, वत्तीस लघुवर्ण-युक्त एक प्रकार का दंडक वृत्त, विस्मय, आश्चर्य ।

डभरूका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का तन्त्रोक्त आसन ।

डभरूका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का तन्त्रोक्त आसन ।

डभरूमध्य—(सं. पुं.) भूमि या जल का वह

संकीर्ण भाग जो दो वड़े भू या जल खंडों को मिलता है; जल-डभरूमध्य—(पुं.) जल का वह पतला भाग जो जल के दो वड़े-वड़े भागों को मिलता है ।

डभरू (रू)-यंत्र—(सं. पुं.) दो घड़ों के मुखों को मिलाकर बनाया हुआ यंत्र जो अर्क खींचने, सिंगरफ में से पारा अलगाने आदि के काम आता है ।

डयन—(सं. पुं.) पालकी, डोली, उड़ने की क्रिया ।

डर—(हि. पुं.) भीति, भय, आशंका, अनिष्ट की भावना, त्रास ।

डरना—(हि. क्रि. अ.) भयभीत होना, आशंका करना ।

डरपना—(हि. क्रि. अ.) भयभीत होना, डरना ।

डरपोक—(हि. वि.) भीरु, कायर, जो बहुत डरता हो ।

डरवाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'डराना' ।

डराक—(हि. वि.) डरपोक ।

डराडरी—(हि. स्त्री.) भय, त्रास, डर ।

डराना—(हि. क्रि. स.) भयभीत करना, भय दिखलाना ।

डरावना—(हि. वि.) डर उत्पन्न करने-वाला, भयानक, भयंकर ।

डरावा—(हि. पुं.) फलवाले वृक्षों में बँधी हुई एक लकड़ी जो पक्षियों को उड़ाने के लिये खटखट करती है, डराने के निमित्त कही हुई बात ।

डरी—(हि. स्त्री.) देख 'डली' ।

डरील, डरीला—(हि. वि.) जिसमें शाखाएँ हो, डारवाला, शाखायुक्त ।

डरैला—(हि. वि.) डरावना, भयंकर ।

डल—(हि. पुं.) खण्ड, अंश, टुकड़ा; (स्त्री.) झील ।

डलई—(हि. स्त्री.) देखें 'डलिया' ।

डलना—(हि. क्रि. अ.) डाला जाना, पड़ना ।

डलवा—(हि. पुं.) देखें 'डला' ।

डलवाना—(हि. क्रि. स.) डालने का काम दूसरे से कराना ।

डला—(हि. पुं.) खण्ड, टुकड़ा, बेंत, वाँस आदि की फट्टियों का बना हुआ पात्र, दौरा, टोकरा ।

डलिया—(हि. स्त्री.) छोटा टोकरा, दौरा ।

डली—(हि. स्त्री.) खण्ड, छोटा टुकड़ा, छोटा ढेला, सुपारी, डलिया ।

डल्लक—(सं. पुं.) बेंत, वाँस आदि का बना हुआ पात्र, डला, दौरा ।

डवैरू—(हि. पुं.) देखें 'डभरू' ।

डवरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का वड़ा कटोरा ।

डस—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की मदिरा, तराजू के पलड़ की डोरी, कपड़े का छोर ।

डसन—(हि. स्त्री.) डसन की क्रिया या दंग ।

डसना—(हि. क्रि. स.) साँप तथा विपैले कीड़ों का काटना, डंक मारना ।

डसवाना, डसाना—(हि. क्रि. स.) डसने को प्रेरित करना ।

डहकना—(हि. क्रि. अ., स.) ठगना, छल करना, फैलना, छितराना, ललचाना; विलाप करना, गरजना ।

डहकाना—(हि. क्रि. अ., स.) नष्ट करना, गंवाना, छल करना, ठगना ।

डहडहा—(हि. वि.) हराभरा, लहलहाता हुआ, आनन्दित, प्रसन्न, प्रफुल्लित, टटका ।

डहडहाना—(हि. क्रि. अ.) लहलहाना, हराभरा होना, प्रसन्न होना ।

डहडहाव—(हि. पुं.) प्रसन्नता, प्रफुल्लता ।

डहन—(हि. पुं.) पख, पर, डैना; (स्त्री.) दाह, जलन ।

डहना—(हि. क्रि. अ., स.) भस्म होना, जलना, द्रव्य करना, कुढ़ना, चिढ़ना, बुरा मानना, क्लेश पहुँचाना, जलाना ।

डहर—(हि. स्त्री.) पथ, मार्ग, आकाशगंगा ।

डहरना—(हि. क्रि. अ.) चलना, घूमना, फिरना ।

डहराना—(हि. क्रि. स.) चलाना, फिराना ।

डहार—(हि. पुं.) कष्ट देनेवाला ।

डाँक—(हि. स्त्री.) तंत्रे या चाँदी का बहुत महीन पत्तर जो नगीनों के नीचे वैठाया जाता है, वमन; (पुं.) देखें 'डंका' ।

डाँकना—(हि. क्रि. अ., स.) कूदकर पार करना, फाँदना, वमन करना ।

डाँग—(हि. पुं.) डंका ।

डाँगर—(हि. पुं.) चौपाया (गाय, भँस आदि), एक नीच जाति; (वि.) कृश, दुबला-पतला, मूख; जड़ ।

डाँगा—(हि. पुं.) जहाज के मस्तूल में लगाया हुआ बड़े बल का बल्ला ।

डाँट—(हि. स्त्री.) क्रोध का शब्द, घुड़की, डपट, शासन, दवाव; (मुहा.)—में रखना—शासन या वश में रखना (वच्चों, नौकरों आदि को) ।

डाँटना—(हि. क्रि. स.) क्रोधपूर्वक कठोर शब्द कहना, डपटना, घुड़कना ।

डाँट—(हि. पुं.) देखें 'डंठल' ।

डाँड—(हि. पुं.) डंडा, सीधी लकड़ी, गदका, लकीर, भीटा, टीला, सीमा, समुद्र का तंग ढालुआँ किनारा, जंगल काटकर बनाया हुआ स्थान, अर्थदंड, हरजाना, नुकसान का बदला, नाव

खेने का पटरा लगा हुआ डंडा, अंकुश का हत्था, खेत के चारों ओर बनाई हुई मेंड़।
डांडना—(हि. क्रि. स.) अर्थदण्ड लगाना।
डांडर—(हि. पुं.) बाजरे आदि की खूंटो जो फसल काट लेने पर खेत में रह जाती है।
डांडा—(हि. पुं.) नाव खेने का पटरा लगा हुआ वाँस का डंडा, सीमा, हद्द, डाँड़, छड़, गदका।
डांडा-मेंड़ा—(हि. पुं.) आपस की अति समीपता या लगाव, मेंड़, झगड़ा, टंटा।
डाँडी—(हि. स्त्री.) लंबा पतला डंडा, लंबा हत्था, अस्त्र की मुठिया, तराजू की डंडी, पतली शाखा, फूल या फल में लगा हुआ डंठल, टहनी, चिड़ियों के बैठने का स्थान, फूल के नीचे का पतला भाग, सीधी रेखा, लकीर, एक प्रकार की पहाड़ी सवारी, झंपान, हिंडोले में लगाने की लकड़ी।
डाँवर—(हि. पुं.) पुत्र, बेटा, लड़का।
डाँवरी—(हि. स्त्री.) पुत्री, कन्या, बेटो।
डाँवरू—(हि. पुं.) वाघ का वच्चा।
डाँवाडोल—(हि. वि.) स्थिर न रहनेवाला, चंचल, विचलित।
डाँश-पाहिड़—(हि. पुं.) छद्म ताल के ग्यारह भेदों में से एक।
डाँस—(हि. पुं.) बड़ा मच्छड़, दंश, चौपायों को काटनेवाली एक प्रकार की मक्खी।
डाइन—(हि. स्त्री.) कुरुपा स्त्री, जिस स्त्री की बुरी दृष्टि से बच्चे मर जाते हैं, चुड़ैल, भूतनी।
डाक—(हि. स्त्री.) वह स्थान जहाँ पर भाड़ी के घोड़े बदले जाते हैं, चिट्ठियों के आने-जाने की राजकीय व्यवस्था, इस प्रवन्ध से चिट्ठी-पत्री आदि जो भेजी जावे, वमन, कै, उलटी; —**खाना**—(पुं.) वह सरकारी स्थान जहाँ पर मनुष्य भिन्न-भिन्न स्थानों को पत्र आदि भेजने के लिये इनको छोड़ते हैं तथा भिन्न-भिन्न स्थानों से आये हुए पत्र आदि जहाँ से वाँटे जाते हैं; —**गाड़ी**—(स्त्री.) वह रेलगाड़ी जो डाक ले जाती है; —**घर**—(पुं.) देखें 'डाकखाना'; —**चौकी**—(स्त्री.) वह पड़ाव जहाँ सवारी के घोड़े बदले जाते हैं; —**बंगला**—(पुं.) वह राजकीय गृह जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जानेवाले राजकर्मचारियों की सुविधा और विश्राम के लिये बना होता है; —**मुंशी**—(पुं.) डाकघर का प्रबंध करनेवाला, पोस्टमास्टर; —**धय**—(पुं.)

डाक महसूल, डाक का खर्च।
डाकना—(हि. क्रि. अ. स.) लांघना, फाँदना, कूदना, उलटी करना, वमन करना।
डाकर—(हि. पुं.) सूखे हुए तालाव की मिट्टी जो धूप से फट जाती है।
डाका—(हि. पुं.) किसी का घन छीनने के लिये आक्रमण या धावा, वटमारी।
डाकाजनी—(हि. स्त्री.) डकैती करने का काम, डाका।
डाकिन, डाकिनी—(स. स्त्री.) काली के एक गण-का नाम, पिशाची, डाइन, चुड़ैल, शिव और पार्वती की अनुचरी जो संहार-शक्ति का अङ्गविशेष कही जाती है।
डाकिया—(हि. पुं.) डाक ढोनेवाला, पोस्ट-मैन।
डाकी—(हि. स्त्री.) उलटी, वमन, कै; (पुं.) पेट मनुष्य।
डाकू—(हि. पुं.) वह जो अन्धाय से दूसरे का माल लूट लेता है, लुटेरा, वटमार, डकैत।
डाक्टर—(अं. पुं.) पश्चिमी चिकित्सा-प्रणाली द्वारा चिकित्सा करनेवाला चिकित्सक, विद्वत्ता की एक उच्च उपाधि।
डाक्टरी—(हि. स्त्री.) पाश्चात्य चिकित्सा-शास्त्र, आयुर्वेद विद्या।
डाक्टर—(हि. पुं.) देखें 'डाक्टर'।
डागा—(हि. पुं.) वह डडा जिससे नगाड़ा बजाया जाता है, चोब।
डागुर—(हि. पुं.) जाटों की एक जाति।
डाट—(हि. स्त्री.) टेक, चाँड़, छेद बन्द करने के लिए प्रयुक्त कोई वस्तु, बोतल का मुँह बन्द करने की वस्तु, डट्टा, काग, देखें 'डाँट'।
डाटना—(हि. क्रि. स.) एक वस्तु को दूसरे के ऊपर रखकर जोर से दवाना, चाँड़ लगाना, टेकना, ठेपी लगाना, छेद बन्द करना, ठूस-ठूसकर भरना, पेट भर भोजन करना, डटाना, मिड़ाना, मिलाना।
डाढ़—(हि. स्त्री.) चवाने के चौड़े दाँत, दाढ़, वट आदि वृक्षों की जटा, वरोह।
डाढ़ना—(हि. क्रि. स.) जलाना, झुलसाना।
डाढ़ा—(हि. स्त्री.) दावानल, जंगल की आग, अग्नि, जलन, दाह।
डाढ़ी—(हि. स्त्री.) चिवूक और गण्ड-स्थल पर के बाल, दाढ़ी, त्रिबुक, ठुड़डी।
डाव—(हि. पुं.) कच्चा नारियल, तलवार लटकाने की चौड़ी पट्टी, परतल।
डावर—(हि. पुं.) पोखरी, गड्ढा, ताल, हाथ धोने तथा कुल्ला करने का पात्र, चिलमची; (वि.) मटमैला (जल)।

डावा—(हि. पुं.) डव्वा।
डाभ—(हि. पुं.) एक प्रकार का कुश, आम का बीर, कच्चा नारियल।
डामर—(सं. पुं.) महादेवजी का कहा हुआ एक तन्त्रशास्त्र, आडम्बर, चमत्कार, गर्व, अहंकार, एक प्रकार का चक्र जो दुर्ग के शुभाशुभ जानने के लिये बनाया जाता है, एक क्षेत्रपाल का नाम, धूमधाम, हलचल; (हि. पुं.) साखू के वृक्ष का गोंद, राल, एक प्रकार की राल जो छोटी मधुमक्खियों के छत्तों में से निकलती है, मधुमक्खी जो ऐसी राल बनाती है।
डामल—(हि. पुं. स्त्री.) जीवनभर के लिए कारावास, जन्मभर के लिये बंदी, 'देशनिकाला' का राजकीय दण्ड।
डामाडोल—(हि. वि.) देखें 'डाँवाडोल'।
डायन—(हि. स्त्री.) कुरुपा, भयंकर स्त्री, डाकिनी, पिशाचिनी, वह स्त्री जिसकी कुदृष्टि से बच्चे मर जाते हैं।
डार—(हि. स्त्री.) डलिया, टोकरी, शाखा, डाल, फानूस की खूंटो जो भीत में लगाई जाती है।
डारना—(हि. क्रि. स.) देखें 'डालना'।
डाल—(हि. स्त्री.) शाखा, तलवार का फल, डलियों में सजाकर भट में भंजे जानेवाले खाद्य पदार्थ, फानूस टाँगन की खूंटो, डलिया, चँगेरी, विवाह के समय वर पक्ष की ओर से वधू को दिया जानेवाला वस्त्र और आभूषण।
डालना—(हि. क्रि. स.) नीचे गिराना, फेंकना, छोड़ना, ऊपर से गिराना, रखना, मिलाना, भीतर घुसाना, सुध न लेना, मुला देना, चिह्नित करना, फैलाना, शरीर पर धारण करना, सौंपना, वमन करना, उपयोग करना, लगाना, गर्भ-पात करना, मिश्रित करना, पत्नी की तरह रखना, विछाना, सुसज्जित करना, खोज करना; (मुहा.) डाल रखना—रख छोड़ना।
डाली—(हि. स्त्री.) फूल, फल या खाने-पीने की वस्तुएँ सजाकर भेंट में भजी जानेवाली सौगात, छितनी, छोटी शाखा।
डावड़ा, डावरा—(हि. पुं.) पुत्र, बेटा।
डावरी—(हि. स्त्री.) कन्या, बेटो, पुत्री।
डास—(हि. पुं.) चमार का चमड़ा साफ करने का एक यन्त्र।
डासन—(हि. पुं.) विस्तर, विछावन, विछौना।
डासना—(हि. क्रि. स.) फैलाना, विछाना।
डासनी—(हि. स्त्री.) चारपाई, पलंग, खाट।

डाह-(हि. स्त्री.) ईर्ष्या द्वेष, जलन ।
 डाहना-(हि. क्रि. स.) कष्ट देना, जलाना ।
 डाही-(हि. पुं.) कष्ट देनेवाला ।
 डिगल-(हि. वि.) दूषित, घृणित, नीच, अधम; (स्त्री.) राजपूताने की वह माया जिसमें भाट और चारण काव्य तथा वंशावली आदि लिखते हैं ।
 डिङ्स-(हि. पुं.), डिङसी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की तरकारी ।
 डिंव-(स. पुं.) बलवा, दंगा, कोलाहल, अंडा, प्लीहा, फेफड़ा, कीड़े का छोटा वच्चा ।
 डिभ-(सं. पुं.) शिशु; (हि. पुं.) आडंबर, अभिमान, धमंड ।
 डिभज, डिवज-(सं. पुं.) जो जीव अंडे से उत्पन्न हो ।
 डिभिया-(हि. वि.) पाखण्डी, अभिमानी, धमण्डी ।
 डिगना-(हि. क्रि. अ.) विचलना, हटना ।
 डिगरी-(अं. स्त्री.) दीवानी अदालत का निर्णयादेश ।
 डिगरीदार-(हि. पुं.) जिसके पक्ष में डिगरी मिली हो ।
 डिगलाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'डिगाना' ।
 डिगाना-(हि. क्रि. स.) जगह से हटाना, खिसकाना, सरकाना, बात पर स्थिर न रहने देना, विचलित करना ।
 डिगो-(हि. स्त्री.) तालाब, पोखरी, साहस ।
 डिठार, डिठिया (आ) र-(हि. वि.) आंखवाला, जिसको सुझाई दे ।
 डिठोरो-(हि. स्त्री.) चालमुग्रा नामक औषधि, एक वृक्ष का बीज ।
 डिठोहरी-(हि. स्त्री.) देखें 'डिठोरी' ।
 डिठौना-(हि. पुं.) काजल का टीका जिसको स्त्रियाँ नजर न लगने के लिये बच्चों के सिर पर लगाती हैं ।
 डिडकारी-(हि. स्त्री.) दहाड़ मारकर रोना ।
 डिडिका-(सं. स्त्री.) युवावस्था में मुख पर होनेवाला रोग, मुहाँसा ।
 डिङाना-(हि. क्रि. स.) दूढ़ करना ।
 डिबिया-(हि. स्त्री.) ढककनदार छोटा डिब्बा ।
 डिबिया टंगड़ी-(हि. स्त्री.) कुश्ती का एक पेंच, मल्ल-युद्ध को एक युक्ति ।
 डिब्बा-(हि. पुं.) ढककनदार छोटा पात्र, रेलगाड़ी का एक कमरा, संपुट, छोटे बच्चों की पसली डूबने का रोग, पलई ।
 डिभगना-(हि. क्रि. स.) मोहित करना ।
 डिभ-(सं. पुं.) दृश्य काव्य या रूपक नाटक का एक भेद जिसमें माया, इन्द्रजाल,

लड़ाई आदि का समावेश विशेष रूप से होता है, (यह रौद्ररस-प्रधान होता है और इसमें चार अंक होते हैं ।)
 डिमडिमो-(हि. स्त्री.) डुगडुगी, डुग्गी ।
 डिडल-(हि. पुं.) मोथा, घास, उन की लच्छी ।
 डिडला-(सं. पुं.) एक प्रकार का वर्णवृत्त; (हि. पुं.) बैल के कंधे पर का उठा हुआ कूबड़, ककुत्थ, बड़े हुए मांस का पिंड ।
 डींग-(हि. स्त्री.) अपनी बड़ाई की झूठी बातें; (मुहा.)-हाँकना-लंबी-चौड़ी बातें करना ।
 डीठ-(हि. स्त्री.) दृष्टि, देखने की शक्ति, समझ, सूझ ।
 डीठना-(हि. क्रि. अ., स.) दृष्टिगोचर होना, देख पड़ना, दृष्टि लगाना, दिखाना ।
 डीठबंध-(हि. पुं.) इन्द्रजाल, वह जादूगर जो इन्द्रजाल दिखलाता हो ।
 डीठमठि-(हि. स्त्री.) जादू, टोना, कुदृष्टि, नजर ।
 डीतर-(सं. वि.) दूसरे का पीछा करने-वाला ।
 डीन-(सं. पुं.) पक्षियों की गति, उड़ान, आगम-शास्त्र; (अं. पुं.) विश्वविद्यालय का एक प्रबंधकर्ता ।
 डीनुआ-(हि. पुं.) डवल, प्रैसा ।
 डीमडाम-(हि. पुं.) ठाट्टाट, आडम्बर, एंठ, ठसक, धूमधाम ।
 डील-(हि. पुं.) शरीर का-विस्तार, कद, शरीर, देह, व्यक्ति, प्राणी, मनुष्य ।
 डीलडील-(हि. पुं.) शरीर की लंबाई-चौड़ाई, शरीर का ढाँचा, काठी ।
 डीह-(हि. पुं.) गाँव की बस्ती का स्थान, गाँव के समीप का ऊँचा टीला, गाँव का देवता ।
 डीहदारी-(हि. स्त्री.) जमींदारों का एक प्रकार का अधिकार ।
 डुंग-(हि. पुं.) अटाला, ढेर, राशि, भीटा, छोटी पहाड़ी, टीला ।
 डुंड-(हि. पुं.) पेड़ की सूखी शाखा, ठूँठ ।
 डुक-(हि. पुं.) घुंसा, मुक्का ।
 डुकिया-(हि. स्त्री.) देखें 'डोकिया' ।
 डुकियाना-(हि. क्रि. स.) घुंसा मारना, मुक्का लगाना ।
 डुगडुगी-(हि. स्त्री.) चमड़ा मड़ा हुआ एक प्रकार का वाजा, डुग्गी; (मुहा.)-पीटना-डुगडुगी पीटकर ऐलान या घोषित करना, मुनादी करना ।
 डुग्गी-(हि. स्त्री.) देखें 'डुगडुगी' ।
 डुगडुगाना-(हि. क्रि. स.) नगाड़ा, ताशा आदि लकड़ी से बजाना ।

डुपटना-(हि. क्रि. स.) कपड़े को चुनना, चुनियाना ।
 डुपट्टा-(हि. पुं.) देखें 'डुपट्टा' ।
 डुबकी-(हि. स्त्री.) जल में डूबने का कार्य, बुडकी, एक तरह की बिना तली हुई बड़ी ।
 डुबवाना-(हि. क्रि. स.) डुबाने का काम दूसरे से कराना ।
 डुबाना-(हि. क्रि. स.) मग्न करना, गोता देना, बोरना, नष्ट करना, सत्यानाश करना; (मुहा.) नाम डुबाना-अपनी मान-मर्यादा को नष्ट करना; लुटिया डुबाना-प्रतिष्ठा खो बैठना ।
 डुबाव-(हि. पुं.) डूबनेभर की जल की गहराई ।
 डुबोना-(हि. क्रि. स.) देखें 'डुबाना', बोरना ।
 डुब्बी-(हि. स्त्री.) डुबकी ।
 डुभकौरी-(हि. स्त्री.) झोल में पकाई हुई बिना तली हुई बरी ।
 डुलना-(हि. क्रि. अ.) डोलना ।
 डुलाना-(हि. क्रि. स.) हिलाना, (पंखा) झलना, घुमाना-फिराना ।
 डुलि-(सं. स्त्री.) कच्छपी, कछुई ।
 डुलिका-(सं. स्त्री.) खंजन के प्रकार का एक पक्षी ।
 डुली-(सं. स्त्री.) साग विशेष, वयुआ ।
 डुंगर-(हि. पुं.) बूह, टीला, भीटा, छोटी पहाड़ी; -फल-(पुं.) बंदाल का फल ।
 डुंगरी-(हि. स्त्री.) छोटी पहाड़ी, छोटा टीला ।
 डुंगा-(हि. पुं.) चम्मच, चमचा, टीला भीटा ।
 डूंडा-(हि. वि., पुं.) एक सींगवाला (बल) ।
 डूबना-(हि. क्रि. अ.) पानी में मग्न होना, गोता खाना; सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह आदि का अस्त होना, सत्यानाश होना, मारा जाना, तन्मय या लीन होना, अच्छी तरह ध्यान लगाना, दरिद्र के घर कन्या का विवाह होना, दिये हुए अथवा व्यवसाय में लगाये हुए धन का नष्ट या चौपट होना; (मुहा.) डूब मरना-लज्जावश किसी को मुंह न दिखलाना; चुल्लू भर पानी में डूब मरना-लाज के मारे मुंह न दिखलाना; -उतराना-चिन्तित रहना; जी डूबना-जी घबड़ाना; नाम डूबना-मान-मर्यादा नष्ट होना ।
 डेंडसी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की तरकारी जो ककड़ी की तरह की होती है, टिडसी ।

डेग, डेगची—(हि.पुं.,स्त्री.) देखें 'देग, देगची'।
डेढ़ा—(हि.पुं.) जल का सर्प।
डेढ़—(हि.वि.,पुं.) एक पूरा और आधा, १½;
 (मुहा.)—**हैट की मसजिद बनाना**—अपने अभिमान में सब से अलग रहना;
—चावल की खीर पकाना—अपनी चाल सब से निराली रखना।
डेढ़ा—(हि.वि.,पुं.) डेढ़गुना, एक प्रकार का पहाड़ा जिसमें प्रत्येक संख्या की डेढ़गुनी संख्या बतलाई जाती है।
डेड़ी—(हि.स्त्री.) अंजही में लिये गये बीज का आधा और देना।
डेरा—(हि.पुं.) ठहराव, पड़ाव, टिकान, ठहरने का स्थान, छावनी, खेमा, तम्बू, शामियाना, निवासस्थान, घर, मकान, नाचने या गानेवालों की मंडली, ठहराव का आयोजन; (मुहा.)—**डालना**—कहीं पर टिकने के लिये सामान फैलाना;
—पड़ना—टिकना, ठहरना।
डेराना—(हि.क्रि.अ.,स.) देखें 'डराना', डरना।
डेल—(हि.स्त्री.) रवी की उपज के लिये जोती हुई भूमि; (पुं.) एक प्रकार का बड़ा वृक्ष, उल्लू पक्षी, पत्थर या मिट्टी का टुकड़ा, डेला, रोड़ा, पक्षियों को बन्द करने का झावा या टोकरा।
डेला—(हि.पुं.) आँख का कोया, वह काठ का टुकड़ा जो मरकहे पशु के गले में बाँधा जाता है।
डेली—(हि.स्त्री.) बाँस की बनी हुई डलिया।
डेवढ़—(हि.वि.) डेढ़गुना, डेवड़ा; (पुं.) क्रम, सिलसिला।
डेवढ़ना—(हि.क्रि.अ.,स.) रोटी का आँच पर फूलना, कपड़े की तह लगाना, हिसाब बन्द करना।
डेवढ़ा—(हि.वि.) एक और आधा, डेढ़गुना; (पुं.) डेढ़गुनी संख्या का पहाड़ा, डेढ़ा।
डेवढ़ी—(हि.स्त्री.) देखें 'डेचोड़ी'।
डेहरी—(हि.स्त्री.) दहलीज, देहली।
डेहल—(हि.पुं.) देखें 'डेहरी'।
डैगना—(हि.पुं.) नटखट चौपायों के गले में बाँधने का लकड़ी का टुकड़ा, ठेंगुर।
डैना—(हि.पुं.) पंख, पाँख।
डोंगर—(हि.पुं.) पहाड़ी टीला, भीटा।
डोंगा—(हि.पुं.) वह नाव जिसमें पाल नहीं लगाई जाती, बड़ी नाव।
डोंगी—(हि.स्त्री.) बिना पाल की छोटी नाव, छोटी नौका, लोहार का वह पानी का पात्र जिसमें वह लोहा लाल करके

बुझाता है।
डोंड़ा—(हि.पुं.) बड़ी इलायची, टोटा, कारतूस।
डोंडी—(हि.स्त्री.) पोस्ते का फल जिसके छिलके को चीरकर अफीम निकाली जाती है, टोंटी, किसी पात्र का उमड़ा हुआ मुँह, छोटी नाव।
डोई—(हि.स्त्री.) कटोरे में बेंट जड़ी हुई करछी जिससे हलवाई लोग घी, चाशनी आदि कड़ाहे से निकालते हैं।
डोकर, डोकरा—(हि.पुं.) अशक्त बुढ़ा आदमी।
डोकरी—(हि.स्त्री.) बृद्धा स्त्री, बुढ़ी औरत।
डोका—(हि.पुं.) तेल, घी आदि रखने का काठ का छोटा पात्र।
डोकिया, डोकी—(हि.स्त्री.) तेल आदि रखने का काठ का छोटा बरतन।
डोड़ा—(हि.पुं.) जल में रहनेवाला सर्प।
डोड़ी—(हि.स्त्री.) मटर, सेम आदि की कच्ची फली, जीवन्ती नाम की लता।
डोडो—(हि.पुं.) वक्त्र के अकार का एक पक्षी।
डोव, डोवा—(हि.पुं.) गोता, डुबकी।
डोवना—(हि.क्रि.स.) डुवाना।
डोम—(हि.पुं.) भारतवर्ष की एक अस्पृश्य नीच जाति, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को आते जाते, श्मशान में चिता जलाते और बाँस के सूप, दूरे आदि बनाते और बेचते हैं; —**कौआ**—(पुं.) एक प्रकार का बड़ा कौआ जिसका रंग बहुत काला होता है।
डोमड़ा—(हि.पुं.) देखें 'डोम'।
डोमनी—(हि.स्त्री.) डोम जाति की स्त्री, डोमिन।
डोमा—(हि.पुं.) एक प्रकार का सर्प।
डोमिन—(हि.स्त्री.) डोम जाति की स्त्री।
डोर—(हि.पुं.) मोटा रस्सा, सूत्र, डोरा, सूत; (मुहा.)—**पर लगाना**—किसी व्यवस्थित कार्य में नियुक्त करना।
डोरना—(हि.क्रि.अ.) हाथ पकड़कर ले चलना।
डोरा—(हि.पुं.) सूत, तागा, धारी, लकीर, आँखों की पतली लाल नसें जो नशे में उमड़ आती हैं, तलवार की धार, एक प्रकार की बड़ी करछी, पौनी, अनुसन्धान-सूत्र, स्नेहसूत्र, प्रेमका बन्धन, काजल या सुरमे की लकीर, नाचने में कंठ की गति, पोस्ते की डोंडी, तपाये हुए घी की धार; (मुहा.)—**डालना**—स्नेह-सूत्र में बाँधना, परचाना।

डोरिया—(हि.पुं.) एक प्रकार का सूती कपड़ा जिसमें मोटे सूत की लम्बी धारियाँ बनी रहती हैं, हरे पैर का एक प्रकार का बगला, एक नीच जाति।
डोरियाना—(हि.क्रि.स.) पगहा लगाकर पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना।
डोरिहार—(हि.पुं.) पटवा जो रेशम के सूत में गहने गूँथता है, एक प्रकार के शैव योगी।
डोरी—(हि.स्त्री.) रज्जु, पाश, रस्सी, बंधन, कड़ाही से दूध, चाशनी आदि निकालने की डाँडीदार कटोरी, डोई; (मुहा.)—**डोली करना**—चौकसी करने में कमी करना।
डोरे—(हि.अव्य.) संग-संग, साथ-साथ।
डोल—(हि.पुं.) कुएँ से पानी खींचने का लोहे का गोल बरतन, हिंडोला, झूला, पालना, पालकी, डोली, हलचल; (वि.) डोलने या हिलनेवाला।
डोलक—(सं.पुं.) ताल देने का एक प्रकार का प्राचीन बाजा।
डोलची—(हि.स्त्री.) छोटा डोल।
डोलडाल—(हि.पुं.) चलना, फिरना, टट्टी जाना।
डोलना—(हि.क्रि.अ.) गति में होना, हिलना, टहलना, चलना, घूमना, फिरना, हटना, दूर चला जाना, विचलित होना, स्थिर न रहना।
डोला—(हि.पुं.) सवारी, पालकी, डोली, मियाना, झूले में दिया जानेवाला झोंका, पेंग; (मुहा.)—**देना**—अपनी वहु-बेटी को किसी राजा को भेंट देना, कन्या को घर के घर ले जाकर ब्याहना।
डोलाना—(हि.क्रि.स.) गतियुक्त करना, हिलाना, चलाना, भगाना, हटाना, दूर करना, अलग करना।
डोलायंत्र—(हि.पुं.) देखें 'दोलायंत्र'।
डोली—(हि.स्त्री.) सवारी, पालकी।
डोही—(हि.स्त्री.) देखें 'डोई'।
डौड़ी—(हि.स्त्री.) ढिढोरा, घोषणा, डुग-डुगी; (मुहा.)—**देना**—ढिढोरा पीटना, मुनादी करना; —**वजना**—घोषणा या मुनादी होना, जयजयकार होना।
डौरा—(हि.पुं.) खेत में उगनेवाली एक प्रकार की घास।
डौह—(हि.पुं.) देखें 'डमह'।
डौआ—(हि.पुं.) काठ का बनावड़ा कलछा या चम्मच।
डौल—(हि.पुं.) प्रारंभिक रूप, ढाँचा,

कद, गठन, शैली, ढव, भाँति, प्रकार, उपाय, खेत कीमेड़, डई, लक्षण, रंग-ढंग, सामान; (मुहा.)-पर लाना-सुडौल बनाना; -त्राँघना-उपाय करना; -डाल-(पुं.) युक्ति, उपाय; -दार-(वि.) सुन्दर। डोलियाना-(हिं. क्रि. स.) ढंग पर लाना, दुस्त करना। ड्योड़ा-(हिं. वि.) पूरा और आधा, ढेवड़ा; (पुं.) डेढ़-गुनी संख्या का पहड़ा, गीत का ऊँचा स्वर। ड्योड़ी-(हिं. स्त्री.) फाटक, चौखट, द्वार में प्रवेश करते समय घर का पहला बाहरी कमरा, पौरी। ड्योड़ीदार, ड्योड़ीवान-(हिं. पुं.) दर-वान, चौकीदार।

ढ

ढ-संस्कृत तथा हिन्दी वर्णमाला का चौदहवाँ व्यंजन वर्ण तथा टवर्ण का चौथा अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान मूर्धा है।

ढकन-(हिं. पुं.) देखें 'ढक्कन'।
ढकना-(हिं. क्रि. अ., स., पुं.) देखें 'ढकना'।
ढख-(हिं. पुं.) ढाक, पलाश।
ढंग-(हिं. पुं.) प्रणाली, पद्धति, शैली, रीति, प्रकार, भाँति, रचना, वनावट, उपाय, युक्ति, आचरण, चाल-डाल, लक्षण, आभास, स्थिति, अवस्था, दशा, व्यवहार, पाखंड, वहाना; (मुहा.)-पर चढ़ना-अनुकूल होना; -पर लाना-अपने अभिप्राय के अनुसार करना; रंग-ढंग-(पुं.) लक्षण; -उजाड़-(पुं.) घोड़े की दुम के नीचे की एक भौरी जो अशुभ मानी जाती है।
ढंगलाना-(हिं. क्रि. स.) लुढ़काना।
ढंगी-(हिं. वि.) चतुर, घूर्त, छली।
ढढस-(हिं. पुं.) ढोंग, पाखंड।
ढदार-(हिं. वि.) अत्यन्त जीर्ण, बहुत वेडील।
ढँदोर-(हिं. पुं.) ज्वाला, आग की लपट, लौ, काले मुँह का बन्दर, लंगूर।
ढँदोरची-(हिं. पुं.) ढिँदोरा फेरनेवाला, मुनादी करनेवाला।
ढँदोरना-(हिं. क्रि. स.) इवर-उवर ढँदना।
ढँदोरा-(हिं. पुं.) घोषणा करने का ढोल, डुगडुगी, ढोल बजकर की हुई घोषणा।
ढँदोरिया-(हिं. पुं.) डुगी बजाकर घोषणा करनेवाला।
ढपना-(हिं. क्रि. अ., स.) ढकना; (पुं.) वह वस्तु जिससे कोई चीज ढाँकी जाती है।

ढई-(हिं. स्त्री.) किसी के घर पर जाकर जब तक अपना काम पूरा न हो तब तक घरना देना; (मुहा.)-देना-घरना देना।
ढकना-(हिं. पुं.) ढापने की वस्तु, ढक्कन; (क्रि. अ., स.) छिपना, ढाँकना।
ढकनियाँ, ढकनी-(हिं. स्त्री.) ढाँपने की वस्तु।
ढकेलना-(हिं. क्रि. स.) धक्का देकर आगे बढ़ाना, ठेलना।
ढकोसना-(हिं. क्रि. स.) वड़े-वड़े घूंटों में पीना।
ढकोसला-(हिं. पुं.) पाखंड।
ढक्कन-(हिं. पुं.) एक प्रकार का गोदना जो हथेली के पीछे गोदवाया जाता है, ढकना, ढाँकने की वस्तु।
ढक्का-(हिं. पुं.) बड़ा ढोल, नगाड़ा, डंका।
ढक्कारी-(सं. स्त्री.) तारा देवी।
ढक्की-(हिं. स्त्री.) पहड़ा की ढालवाँ भूमि।
ढगण-(सं. पुं.) एक मात्रिक गण जिसमें तीन मात्राएँ होती हैं, तांडव।
ढचर-(हिं. पुं.) प्रपंच, टंटा, बखेड़ा, आड-म्बर, झूठा आयोजन।
ढटीगड़(र), ढटीगड़ा-(हिं. वि.) बड़े डीलडौल का।
ढट्टा-(हिं. पुं.) कानतक ढाँपनेवाला सुरेठा।
ढट्टी-(हिं. स्त्री.) दाढ़ी वाँघने की कपड़े की पट्टी, छेद-बंद करने की ठेंपी, डाट।
ढड्डा-(हिं. वि.) आवश्यकता से अधिक या बहुत बड़ा; (पुं.) ढाँचा, आडम्बर, झूठा ठाटवाट।
ढड्डी-(हिं. स्त्री.) बुड्डी स्त्री, बकवादी स्त्री।
ढनमनाना-(हिं. क्रि. अ.) लुढ़कना।
ढप-(हिं. पुं.) लकड़ी से बजाने का चमड़ा मढ़ा हुआ वाजा, डफ।
ढपना-(हिं. पुं.) ढक्कन, ढकने की वस्तु; (क्रि. अ., स.) ढका होना, ढकना।
ढप्पू-(हिं. वि.) अत्यन्त दीर्घ, बहुत बड़ा।
ढफ-(हिं. पुं.) देखें 'ढफ'।
ढव-(हिं. पुं.) ढंग, युक्ति, रीति, प्रकार, वनावट, गढ़न; (मुहा.)-पर चढ़ना-अपना आशय सिद्ध होने की अवस्था पर होना; -पर लगाना-आशय सिद्ध होने की स्थिति पर लाना।
ढवैला-(हिं. वि.) कीचड़ मिला हुआ, पंक्ति, गदला।
ढमढम-(हिं. पुं.) नगाड़े या ढोल का शब्द।
ढयना-(हिं. क्रि. अ.) घर, मकान आदि का ध्वस्त होना या गिर पड़ना।
ढरकना-(हिं. क्रि. अ.) ढलना, गिरकर वहना, द्रव पदार्थ का नीचे की ओर वहना, अस्त होना।

ढरकां-(हिं. पुं.) आँख का एक रोग जिसमें आँसू बहा करता है, चौपायों को दवा पिलाने की बाँस की पोली नली।
ढरकाना-(हिं. क्रि. स.) पानी आदि गिराना, बहाना।
ढरकी-(हिं. स्त्री.) बाने का सूत फेंकने का जुलाहे का एक साधन।
ढरना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'ढलना'।
ढरनि-(हिं. स्त्री.) पतन, गिरने की क्रिया, हिलने-डोलने की क्रिया, चित्त-वृत्ति, झुकाव, स्वाभाविक करुणा, दया-शीलता, कृपा।
ढरहरना-(हिं. क्रि. अ.) झुकना, गिरना, ढरकना, सरकना।
ढरहरा-(हिं. वि.) ढालुआँ।
ढरहरी-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का पक्वान्न, पकोड़ी।
ढराना-(हिं. क्रि. स.) ढरकाना।
ढरारा-(हिं. वि.) ढरकनेवाला, गिरकर वह जानेवाला, लुढ़कनेवाला, शीघ्र प्रवृत्त होनेवाला, आर्काषित होनेवाला।
ढर्रां-(हिं. पुं.) पथ, मार्ग, शैली, ढंग, उपाय, युक्ति, आचरण।
ढलकना-(हिं. क्रि. अ.) ढलना, वहना, सरकना, लुढ़कना।
ढलका-(हिं. पुं.) देखें 'ढरका'।
ढलकाना-(हिं. क्रि. स.) ढरकाना, वहाना, गिराना, लुढ़काना।
ढलकी-(हिं. स्त्री.) देखें 'ढरकी'।
ढलना-(हिं. क्रि. अ.) पानी या किसी द्रव पदार्थ का एक पात्र से दूसरे में डाला, जाना, गिरकर वहना, धीतना, लुढ़कना लहराना, साँचे में ढालकर बनाया जाना प्रसन्न होना, प्रवृत्त होना, झुक जाना; (मुहा.) दिन ढलना-सूर्यास्त होना, साँझ होना; सूरज या चाँद ढलना-इनका अस्त होना; साँचे में ढला हुआ-बड़ा सुडौल, अति सुन्दर।
ढलमल-(हिं. वि.) शिथिल।
ढलवाँ-(हिं. वि.) साँचे में ढालकर बनाया हुआ।
ढलवाना-(हिं. क्रि. स.) ढालने का काम दूसरे से कराना।
ढलाई-(हिं. स्त्री.) ढालने का काम, ढालन का शुल्क या पारिश्रमिक।
ढलाना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'ढलवाना'।
ढलवाँ-(हिं. वि.) ढालकर बनाया हुआ।
ढल्लत-(हिं. पुं.) ढालघारी, सैनिक।
ढवरी-(हिं. स्त्री.) धुन, रट, लगन।
ढहना-(हिं. क्रि. अ.) घर आदि का गिरना

नष्ट होना, ध्वस्त होना, निर्मूल होना ।
 ढहरी—(हिं. स्त्री.) देहली ।
 ढहवाना—(हिं. क्रि. स.) ढहने का काम दूसरे से कराना, मकान आदि गिरवाना ।
 ढहाना—(हिं. क्रि. स.) मकान आदि को ध्वस्त कराना, गिराना ।
 ढाँक—(हिं. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
 ढाँकना—(हिं. क्रि. स.) छिपाना, आड़ में रखना, किसी वस्तु को ऊपर फैलाकर उसके नीचे की वस्तु को छिपाना ।
 ढाँचा—(हिं. पुं.) किसी रचना की आदि की आकृति, ङौल, ठाट, ठठरी, पंजर, वनावट, गढ़न, रचना, तरह, प्रकार, लोहे आदि की छड़ों या बल्लों का परस्पर इस प्रकार जड़ा होना कि उनके बीच में कोई दूसरी वस्तु लगाई, जमाई या जड़ी जा सके ।
 ढाँपना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'ढकना' ।
 ढाँस—(हिं. स्त्री.) गले का वह शब्द जो सूखी खाँसी के साथ निकलता है ।
 ढाँसना—(हिं. क्रि. अ.) सूखी खाँसी खाँसना ।
 ढाँसी—(हिं. स्त्री.) सूखी खाँसी ।
 ढाई—(हिं. वि. पुं.) दो से आधा अधिक, २½ ।
 ढाक—(हिं. पुं.) पलाश का वृक्ष, बड़ा ढोल जो लड़ाई में बजाया जाता है; (मुहा.)—के तीन पात—सर्वदा एक समान ।
 ढाका पाटन—(हिं. पुं.) एक प्रकार का महीन मलमल जिसमें फूल के चित्र बने रहते हैं ।
 ढाटा (ठा)—(हिं. पुं.) दाढ़ी बाँधने की कपड़े की पट्टी, वह बड़ा मुरेठा जिसका एक फेरा दाढ़ी और गाल पर भी लपेटा रहता है ।
 ढाड़ (ढ)—(हिं. स्त्री.) चिल्लाहट, गरज, चिघाड़, चीख; (मुहा.)—मारना—चीखकर रोना ।
 ढाढ़ना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'ढाढ़ना' ।
 ढाढ़स—(हिं. पुं.) आश्वासन, धैर्य, सान्त्वना, दृढ़ता, साहस ।
 ढाढ़िन—(हिं. स्त्री.) दाढ़ी की स्त्री ।
 ढाढ़ी—(हिं. पुं.) एक प्रकार की नीच जाति, ये लोग जन्मोत्सव के अवसर पर लोगों के घरों पर जाते और बघाई का गीत गाते हैं ।
 ढाढ़ीन—(हिं. पुं.) जलसिरिस का वृक्ष ।
 ढाना—(हिं. क्रि. स.) ढहवाना, ध्वस्त करना, गिराना ।
 ढापना—(हिं. क्रि. स.) ढकना, बन्द करना, ढाँपना ।
 ढाबर—(हिं. वि.) मटमैला ।

ढावा—(हिं. पुं.) ओलती, जाल, रोटी की दुकान, बाहरी वारहदरी ।
 ढामक—(हिं. पुं.) नगाड़ा, ढोल आदि का शब्द ।
 ढामना—(हिं. पुं.) एक प्रकार का साँप ।
 ढामरा—(सं. स्त्री.) मादा हंस, हंसी ।
 ढार—(हिं. पुं.) उतार, ढालुवाँ भूमि या मार्ग, रचना, ढाँचा; (स्त्री.) स्त्रियों का कान में पहिने का एक प्रकार का गहना, विरिया ।
 ढारना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'ढालना', गिराना ।
 ढारस—(हिं. पुं.) देखें 'ढाढ़स', आश्वासन ।
 ढाल—(सं. स्त्री.) थाली के आकार का चमड़े का बना हुआ एक अस्त्र जो तलवार, माले आदि के आक्रमण को रोकने के लिये धारण किया जाता है; (पुं.) उतार, ढालुवाँ भूमि, ढार, प्रकार, रीति, ढंग ।
 ढालना—(हिं. क्रि. स.) किसी तरल पदार्थ को एक पात्र से दूसरे में गिराना, उड़ेलना, मदिरा पीना, विक्री करना, कम दाम पर माल बेचना, व्यंग्य बोलना, ताना मारना, पिघली हुई धातु आदि को साँचे में ढालकर कोई वस्तु तैयार करना ।
 ढालवाँ—(हिं. वि.) ढालू, जो बराबर नीचा होता गया हो, ढालुवाँ ।
 ढालिया—(हिं. पुं.) साँचे में ढालकर पात्र आदि बनानेवाला, कसेरा ।
 ढाली—(हिं. पुं.) ढालघारी, ढाल बाँधनेवाला ।
 ढालुवाँ (आँ), ढाल—(हिं. वि.) देखें 'ढालवाँ' ।
 ढास—(हिं. पुं.) ठग, लूटेरा, डाकू ।
 ढासना—(हिं. पुं.) सहारा लेने की वस्तु, टेक, ओट, सहारा ।
 ढाहना—(हिं. क्रि. स.) ढाना, ध्वस्त करना ।
 ढिढोरना—(हिं. क्रि. स.) अनुसन्धान करना, खोजना, हाथ डालकर ढूँढना ।
 ढिढोरा—(हिं. पुं.) घोषणा करने का ढोल, डुगडुगी, ढोल बजाकर की हुई घोषणा ।
 ढिकुली—(हिं. स्त्री.) देखें 'ढेंकुली' ।
 ढिग—(हिं. अव्य.) समीप, निकट, पास, (स्त्री.) तट, किनारा, कोर, पाठ ।
 ढिठाई—(हिं. स्त्री.) अनुचित व्यवहार, घृष्टता, उद्वेगता, निलज्जता, अशिष्ट साहस ।
 ढिवरी—(हिं. स्त्री.) वह मिट्टी की ढिविया जिसमें बत्ती और किरासन तेल ढालकर जलाते हैं, लोहे का चूड़ीदार डाट जो पुरज आदि में कसा जाता है, चरखे में लगाने की गोल चकती ।
 ढिमका—(हिं. सर्व.) अमुक, कोई ।

ढिलढिला—(हिं. वि.) ढीलाढाला, तरल, पतला ।
 ढिलाई—(हिं. स्त्री.) ढीला होने का भाव, आलस्य, शिथिलता ।
 ढिलाना—(हिं. क्रि. स.) ढीलने का काम दूसरे से कराना, ढीला करना ।
 ढिल्लड़—(हिं. वि.) मट्ठर, आलसी ।
 ढिसरना—(हिं. क्रि. अ.) प्रवृत्त होना, झुकना, सरकना, फिसलना, फलों का पकना आरंभ होना ।
 ढींगर—(हिं. पुं.) हृष्टपुष्ट मनुष्य, जार ।
 ढीढ़, ढीढा—(हिं. पुं.) निकला हुआ पेट, गर्म ।
 ढीढस—(हिं. पुं.) एक प्रकार की तरकारी ।
 ढीच—(हिं. स्त्री.) कूबड़ ।
 ढीट—(हिं. स्त्री.) लकीर, रेखा ।
 ढीठ—(हिं. वि.) जो बड़ों के सामन संकोच न करता हो, घृष्ट, उद्दंड, भयरहित, साहसी, निडर; -ता—(स्त्री.) घृष्टता, ढिठाई ।
 ढीठा, ढीठ्यो—(हिं. वि.) ढीठ, घृष्ट ।
 ढीम, ढीमा—(हिं. पुं.) पत्थर आदि का टुकड़ा, ढेला, ढोका ।
 ढील—(हिं. स्त्री.) शिथिलता, बंधन को ढीला करने का भाव; (पुं.) वालों में पड़नेवाला कीड़ा, जूँ ।
 ढीलना—(हिं. क्रि. स.) तना न रखना, ढीला करना, बंधन से छुटकारा देना, छोड़ देना, कुएँ में लटकाना ।
 ढील—(हिं. वि.) जो तना न हो, जो दृढ़ता से बँधा न हो, जो जकड़कर पकड़े न हो, जिसमें जल का भाग अधिक हो, बहुत गीला, पनीला, जो गाढ़ा न हो, जो कसा न हो (वस्त्र), जो अपने संकल्प पर दृढ़ न हो, शिथिल, आलसी, नपुंसक; ढीली आँख—मदोन्मत्त दृष्टि ।
 ढीलापन—(हिं. पुं.) ढीला होने का भाव, शिथिलता ।
 ढीह—(हिं. पुं.) ऊँचा टीला, भीटा ।
 ढुंढ—(हिं. पुं.) ठग, चोर, उचक्का ।
 ढुंढपाणि—(हिं. पुं.) दण्डपाणि, शिव के एक गण का नाम ।
 ढुंढवाना—(हिं. क्रि. स.) अन्वेषण कराना, ढूँढन का काम कराना ।
 ढुंढा—(सं. स्त्री.) हिरण्यकश्यप की वहिन का नाम जो एक राक्षसी थी, लावा आदि को गुड़ में पागकर बना लड़ू ।
 ढुंढिराज—(सं. पुं.) गजानन, गणेश ।
 ढुंढी—(हिं. स्त्री.) बाहु, बाँह; (मुहा.)—ढुंढियाँ चढ़ाना—बाँह मरोड़ना ।
 ढुकना—(हिं. क्रि. अ.) प्रवेश करना, घुसना,

आक्रमण करना, धावा करना, टूट पड़ना, धात में रहना, छिपकर कोई बात सुनना ।
 दुबका—(हि. पुं.) देख 'दुका' ।
 टुटोना—(हि. पुं.) लड़का ।
 दुनमुनिया—(हि. स्त्री.) दुलकने की क्रिया या भाव ।
 दुरकना—(हि. क्रि. अ.) फिसलकर गिर पड़ना, लुढ़कना, झुकना ।
 दुरना—(हि. क्रि. अ.) ढलना, ढरकना, गिरकर वहना, इधर-उधर डोलना, डगमगाना, हिलना-डोलना, लुढ़कना, फिसलना, झुकना, प्रवृत्त होना, प्रसन्न होना अनुकूल होना ।
 हरहुरी—(हि. स्त्री.) फिसलने की क्रिया, पगडंडी, नथ में लगे हुए सोने के गोल दाने ।
 दुराना—(हि. क्रि. स.) ढरकाना, लुढ़काना, दुलकाना, हिलना, डोलना ।
 दुलकना—(हि. क्रि. अ.) गिरना, सरकना, लुढ़कना ।
 दुलकाना—(हि. क्रि. स.) सरकाना, लुढ़काना ।
 दुलदुल—(हि. वि.) लुढ़कनेवाला ।
 दुलना—(हि. क्रि. अ.) गिरकर वहना, लुढ़कना, फिसलना, प्रसन्न होना, झुकना, प्रवृत्त होना, लहराना, इधर-उधर हिलना-डोलना, प्रसन्न होना ।
 दुलवाई—(हि. स्त्री.) ढोने का काम, ढोने का शुक ।
 दुलवाना—(हि. क्रि. स.) ढोने का काम दूसरे से कराना ।
 दुलाना—(हि. क्रि. स.) ढरकाना, ढालना, नीचे की गिराना, लुढ़काना, सरकाना, प्रवृत्त करना, झुकाना, इधर-उधर हिलाना, फहराना, चलाना-फिराना, अनुकूल करना, प्रसन्न करना, ढोने का काम दूसरे से कराना, फेरना ।
 दुलुआ (वा)—(हि. स्त्री.) खजूर से निकाली हुई चीनी ।
 दुल्ला—(हि. पुं.) ढोला, अन्न में लगनेवाला कीड़ा, घुन ।
 दुंकना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'दुकना' ।
 दुका—(हि. पुं.) कुछ सुनने या देखने के लिये छिपने का काम ।
 दुढ़—(हि. स्त्री.) अन्वेषण, खोज ।
 दुड़ना—(हि. क्रि. स.) अन्वेषण करना ।
 दुका—(हि. पुं.) घासपात, डंठल आदि के बोझ का एक मान ।
 दुसी—(हि. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युवित ।
 दुह, दुहा—(हि. पुं.) अटाला, राशि, ढेर,

भीटा, टीला ।
 डेंक—(सं. पुं.) एक प्रकार की चिड़िया जो सदा पानी के पास रहती है ।
 डेंकली—(हि. स्त्री.) सिंचाई के लिये कुएँ से पानी निकालने का एक यन्त्र, धान कूटने का एक प्रकार का लकड़ी का यन्त्र, ढकी, कलैया, भभके से अर्क उतारने का यन्त्र ।
 डेंका—(हि. पुं.) कोल्हू में लगा हुआ वाँस ।
 डेंकी, डेंकुली—(हि. स्त्री.) धान कूटने की डेंकली ।
 डेंढ़—(हि. पुं.) चूहा, नेवला आदि मरे हुए जन्तुओं को खानेवाली एक प्रकार की नीच जाति, मूढ़, मूर्ख, कपास आदि का डोंडा ।
 डेंढ़र—(हि. पुं.) आँख के डेले पर का उभड़ा हुआ मांस, टटर ।
 डेंढ़वा—(हि. पुं.) काले मुँह का बन्दर, लंगूर ।
 डेंढ़ा—(हि. पुं.) देखें 'ढेढ़' ।
 डेंढ़ी—(हि. स्त्री.) कपास, पोस्ते आदि की फली, ढेंढ़, कान में पहिनने का एक गहना, तरकी ।
 डेंप, डेंपो—(हि. स्त्री.) टहनी से लगा हुआ फल या पत्ते के छोर का भाग या डंठल ।
 डेवरी—(हि. स्त्री.) देखें 'दिवरी' ।
 डेवका—(हि. पुं.) पैसा ।
 डेर—(हि. पुं.) अटाला, राशि, पूंज, समूह, टाल, गाँज; (वि.) अधिक, बहुत; (मुहा.)—करना—मार डालना;—हो जाना—गिरकर मर जाना, बहुत थक जाना ।
 डेरा—(हि. पुं.) रस्सी या सुतली बटने की फिरकी, मोट के मुँह पर लगा हुआ घेरा या भेड़ा ।
 डेरी—(हि. स्त्री.) ढेर, समूह, टाल, राशि ।
 डेल—(हि. पुं.) देखें 'ढेला' ।
 डेलवास—(हि. पुं. स्त्री.) ढेला फकने की रस्सी का बना हुआ फन्दा ।
 डेला—(हि. पुं.) पत्थर, ईंट आदि का छोटा टुकड़ा, खण्ड, टुकड़ा, चक्का, धान का एक भेद;—चौथ—(स्त्री.) मात्रपद की शुकला चतुर्थी (कहा जाता है कि इस तिथि को चन्द्रमा देखने से कलंक लगता है। यदि कोई गाली सुन ले तो कलंक नहीं लगता। इसीसे लोग दूसरों के घर पर ढेला फेंकते हैं।)
 डेंचा—(हि. पुं.) एक पौधा (जयन्ती) जिसकी छाल से रस्सी बनाई जाती है ।
 डैया—(हि. पुं., स्त्री.) ढाई सेर

तौलने का बटखरा, ढाई गुने का पहाड़ा, शनैश्चर का एक राशि पर ढाई वर्ष तक रहने का अरिष्ट ।
 डोंकना—(हि. क्रि. स.) पीना, पी जाना ।
 डोंका—(हि. पुं.) पत्थर आदि का बड़ा टुकड़ा, कोल्हू का वाँस, चार सौ या दो ढोली पानों की गड्डी ।
 डोंग—(हि. पुं.) आडंबर, पाखंड, ढकोसला; धूर्तविद्या, बहाना, छल;—बाजी—(स्त्री.) आडम्बर, धूर्त-विद्या, पाखंड ।
 डोंगी—(हि. वि.) पाखंडी, झूठा आडंबर करनेवाला, ढकोसला करनेवाला ।
 डोंढ़—(हि. पुं.) कपास, पोस्ते आदि की कली, डोंडा ।
 डोंढ़ी—(हि. स्त्री.) नाभि ।
 डोका—(हि. पुं.) देखें 'ढोंका' ।
 डोटा—(हि. पुं.) पुत्र, लड़का, बेटा ।
 डोटी—(हि. स्त्री.) पुत्री, बेटी, लड़की ।
 डोटौना—(हि. पुं.) देखें 'ढोटा' ।
 डोना—(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, बोझ ले चलना या पहुँचाना, निर्वाह करना, उठा ले जाना ।
 डोर, डोरा—(हि. पुं.) मवेशी, चौपाया ।
 डोरना—(हि. क्रि. स.) ढालना, लुढ़काना ।
 डोरी—(हि. स्त्री.) ढालने की क्रिया या भाव, घुन, लगन, रट ।
 डोल—(सं. पुं.) कान का परदा; (हि. पुं.) एक प्रकार का दोनों ओर चमड़ा मढ़ा हुआ बाजा जो गले में लटकाकर बजाया जाता है, एक राग विशेष; (मुहा.)—पीटना—चारों ओर कोई बात या समाचार फैलाते फिरना ।
 डोलक—(हि. स्त्री.) छोटा ढोल ।
 डोलकिया—(हि. पुं.) ढोल बजानेवाला मनुष्य ।
 डोलकी—(हि. स्त्री.) छोटी डोलक ।
 डोलना—(हि. पुं.) डोलक के आकार का गले में पहिनने का जंतर, सड़क पीटने का ढोल के आकार का बड़ा बेलन, बच्चों का छोटा झूला, पालना; (क्रि. स.) ढरकाना, ढालना ।
 डोलनी—(हि. स्त्री.) बच्चों का छोटा झूला, पालना ।
 डोला—(हि. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा जो सड़ी हुई वस्तुओं में पड़ जाता है, सीमा सूचित करने का चिह्न, गोल मेहराव बनाने का पटाव, लदाव, शरीर, देह, पिण्ड, प्रियतम, पति, एक प्रकार का

गीत, मूर्ख मनुष्य ।

ढोलिनी-(हिं. स्त्री.) ढोल बजानेवाली स्त्री, डफालिन ।

ढोलिया-(हिं.पुं.) ढोल बजानेवाला पुरुष ।
ढोली-(सं. वि.) ढोल बजानेवाला;
(हिं. स्त्री.) दो सौ पानोंकी गड्डी,
परिहास, हँसी, दिल्लगी, ठिठोली ।

ढोव-(हिं. पुं.) वह पदार्थ जो मंगल अवसर पर राजा, सरदार आदि को भेंट के रूप में दिया जाता है, नजर, डाली, भेंट ।

ढोवा-(हिं. पुं.) लूट ।

ढोहना-(हिं. क्रि. स.) खोजना ।

ढौंचा-(हिं. पुं.) वह पहाड़ा जिसमें प्रत्येक गिनती की साढ़े चार गुनी संख्या दोहराई जाती है ।

ढौंसना-(हिं. क्रि. अ.) आनन्द ध्वनि करना ।

ढौंकन-(सं. पुं.) भट, उत्कोच, घूस ।

ढौरी-(हिं. स्त्री.) रट, लगन, धुन ।

ण

ण-संस्कृत तथा हिन्दी के व्यंजन वर्णों का पंद्रहवाँ अक्षर तथा टवर्ण का पाँचवाँ वर्ण, इसका उच्चारण-स्थान मर्धा है। (सं.पुं.) विन्दुदेव या एक बुद्ध का नाम, आभूषण, निर्णय, शिव का एक नाम, ज्ञान, दान, जलीय गृह; (वि.) गुणरहित, गुणशून्य ।

णकार-(सं. पुं.) 'ण' स्वरूप वर्ण ।

णगण-(सं. पुं.) दो मात्राओं का एक मात्रिक गण ।

त

त-संस्कृत और हिन्दी वर्णमाला का सोलहवाँ अक्षर तथा तवर्ण का पहिला वर्ण; इसका उच्चारण-स्थान दन्त है ।

तं-(सं. स्त्री.) नौका, नाव, पवित्रता, पुण्य ।
तंक-(सं. पुं.) मय, डर, आतंक, वियोग-दुःख, टाँकी, छेनी ।

तंकन-(सं. पुं.) कष्टमय जीवनयापन ।

तंग-(फा. पुं.) जीन कसने की पेट्टी;
(वि.) संकीर्ण, विस्तार में कम, चुस्त,

कसा, हुआ, हरान या परेशान; (मुहा.)

-आना या होना-परेशान होना, धवरा जाना; -करना-परेशान करना; -होना

-पास में घन का अभाव होना ।

तंगदस्त, तंगहाल-(फा. वि.) निर्धन, गरीब ।

तंगदस्ती-(फा. स्त्री.) अर्थाभाव, पैसे

की कमी ।

तंगा-(हिं. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष ।

तंगी-(हिं. स्त्री.) तंग या चुस्त होने की अवस्था, संकीर्णता, पैसे का अत्यधिक अभाव, निर्धनता, गरीबी, कमी ।

तंजेव-(फा. स्त्री.) बहुत महीन और बढ़िया मलमल ।

तंड-(हिं. पुं.) नृत्य, नाच ।

तंडव-(हिं. पुं.) एक नृत्य विशेष, देखें 'तांडव' ।

तंडुल-(सं. पुं.) चावल ।

तंत-(हिं. पुं., स्त्री) तार लगा हुआ एक प्रकार का वाजा, क्रिया, तन्त्रशास्त्र, आतुरता, प्रवले इच्छा, अधीनता, परवशता; (वि.) जो तौल में ठीक हो ।

तंतमंत-(हिं. पुं.) देखें 'तंत्र-मंत्र' ।

तंतरी-(हिं. पुं.) वह जो तारवाले वाजे बजाता हो, देखें 'तंत्री' ।

तंतु-(सं. पुं.) रेशा, सूत, तागा, विस्तार, ताँत, वंशपरंपरा, मकड़ी का जाला ।

तंतुकीट-(हिं. पुं.) रेशम का कीड़ा, मकड़ा ।

तंतुवादक-(हिं. पुं.) तार के वाजे बजानेवाला, देखें 'तंत्री' ।

तंतुवाय-(हिं. पुं.) कपड़ा धुननेवाला, जुलाहा ।

तंत्र-(हिं. पुं.) ताँत, सूत, कपड़ा, धन, सम्पत्ति, प्रमाण, कारण, औषध, शासन-प्रणाली, झाड़ने-फूकने का मंत्र, शक्ति-पूजा और अभिचार का शास्त्र ।

तंत्रण-(हिं. पुं.) शासन-प्रबंध ।

तंत्र-मंत्र-(पुं. सं.) जादू-टोना, युक्ति-उपाय ।

तंत्री-(हिं. स्त्री.) वीणा आदि तार के वाजे, शरीर की नस, रस्ती, वाजा बजानेवाला, देखें 'तंतरी' ।

तंदरा-(हिं. स्त्री.) देखें 'तंद्रा' ।

तंदुरुस्त-(फा. वि.) स्वस्थ, नीरोग ।

तंदुरुस्ती-(फा. स्त्री.) स्वास्थ्य, नीरोग अवस्था ।

तंदुल-(हिं. पुं.) देखें 'तंडुल', चावल ।

तंदूर-(फा. पुं.) रोटी सेंकने का मिट्टी का बड़ा चूल्हा ।

तंदूरी-(हिं. पुं.) एक प्रकार का उत्तम महीन रेशम; (वि.) तंदूर में बनाई हुई (रोटी), तंदूर-संबंधी ।

तंदेही-(हिं. स्त्री.) आज्ञा, चेतावनी, प्रयत्न, प्रयास, परिश्रम ।

तंद्रा-(सं. स्त्री.) ऊँध, उँघाई, नौद ।

तंद्रालु-(हिं. वि.) जिसको नौद आती हो, ऊँधनेवाला ।

तंवा-(हिं. पुं.) एक प्रकार का चौड़ी मोहरी का पायजामा ।

तंवाकू-(हिं. पुं.) देखें 'तमाखू' ।

तंवाकूफरोश-(हिं. पुं.) तमाखू बेचनेवाला मनुष्य ।

तंबिया-(हिं. पुं.) ताँवे का बना हुआ एक प्रकार का छोटा तसला ।

तंबियाना-(हिं. क्रि. अ.) ताँवे के रंग का होना, ताँवे के पात्र में किसी पदार्थ को रखने से इसमें ताँवे-सा रंग और गन्ध आ जाना ।

तंबीह-(फा. स्त्री.) चेतावनी, शिक्षा ।

तंबू-(हिं. पुं.) मोटे कपड़े, टाट आदि का बना हुआ घर, खेमा, डेरा, शिविर ।

तंबूर-(फा. पुं.) एक प्रकार का छोटा ढोल ।

तंबूरची-(फा. पुं.) तंबूर बजानेवाला ।

तंबूरा-(हिं. पुं.) सितार की तरह का एक वाजा जो केवल सुर को सहारा देने के लिये बजाया जाता है, तानपूरा ।

तंबूरा-तोप-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की बड़ी तोप ।

तंबूल-(हिं. पुं.) पान, देखें 'तांबूल' ।

तंबोर-(हिं. पुं.) देखें 'तमोर' ।

तंबोल-(हिं. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष जिसके पत्ते लिसोड़े के आकार के होते हैं, बारात के समय वर को दिया जानेवाला टीका ।

तंबोलिन-(हिं. स्त्री.) पान बेचनेवाली स्त्री, तमोलिन ।

तंबोलिया-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मछली जो गंगा तथा यमुना नदी में पाई जाती है ।

तंबोली-(हिं. पुं.) पान बेचनेवाला मनुष्य, बरई ।

तंभ, तंभन-(हिं. पुं.) शृंगार रस का स्तंभ नाम का भाव, देखें 'स्तंभन' ।

तंबार-(हिं. स्त्री.) सिर में आनेवाला चक्कर, घुमटा ।

तइसा-(हिं. वि.) वैसा ।

तई-(हिं. प्रत्य.) को, प्रति, से; (अव्य.) के लिए, वास्ते ।

तई-(हिं. स्त्री.) छिछली कड़ाही ।

तउ, तऊ-(हिं. अव्य.) तव, तो भी ।

तक-(हिं. अव्य.) किसी वस्तु या व्यापार की सीमा अथवा अवधि सूचित करनेवाला एक शब्द, पर्यन्त; (स्त्री.) तराजू का पल्ला ।

तकड़ी-(हिं. स्त्री.) रेतीली भूमि में उत्पन्न होनेवाली एक प्रकार की घास ।

तकदीर-(अ. स्त्री.) भाग्य, किस्मत;

(मुहा.)—जागना—माग्य का उदय होना; —फूटना—किस्मत विगड़ना।
 तकदीरी—(अ.वि.) माग्य का या-संबंधी।
 तकन—(हि. स्त्री.) ताकने की क्रिया, दृष्टि।
 तकना—(हि.क्रि.स.) अवलोकन करना, निहारना, देखना, आश्रय लेना, पनाह लेना।
 तकमा—(हि. पुं.) तमगा, तुकमा।
 तकरार—(अ.स्त्री.) झगड़ा, हुज्जत, विवाद।
 तकरारी—(अ. वि.) तकरार करनेवाला।
 तकला—(हि.पुं.) लोहे की सलाई जो चरखे में सूत कातने के लिये लगी होती है, टेकुआ, टेकुरी जिससे रस्सी बनाई जाती है।
 तकली—(हि.स्त्री.) छोटा तकला, टेकुरी।
 तकलीफ—(अ. स्त्री.) कष्ट, दुःख, क्लेश, मुसीबत, विपत्ति।
 तकल्लुफ—(अ. पुं.) शिष्टाचार, शिष्ट व्यवहार, वनावट।
 तकवाना—(हि.क्रि.स.) ताकने का काम दूसरे से कराना।
 तकवाई—(हि. स्त्री.) देखने की क्रिया या भाव, जो घन देखने के बदले में दिया जाय।
 तकजा—(अ.पुं.) तगादा, पावना, माँगना, आदेश, अनुरोध।
 तकान—(हि.स्त्री.) देखें 'थकान', थकावट।
 तकाना—(हि.क्रि.स.) ताकने में दूसरे को प्रवृत्त करना, दिखाना, बतलाना।
 तकार—(सं.पुं.) 'त' स्वरूप अक्षर, त अक्षर।
 तकावी—(अ.स्त्री.) राज्य द्वारा किसानों को समय-समय पर कृषि-साधनों के लिए दिया जानेवाला ऋण।
 तकिल—(सं. वि.) घूर्त।
 तकिला—(सं. स्त्री.) औषध, दवा।
 तकुआ—(हि.पुं.) देखनेवाला, तकला।
 तककोल—(सं.पुं.) एक प्रकार का वृक्ष।
 तक—(सं.पुं.) मटा, छाछ, मथित द्रव्य; —काँचका—(स्त्री.) फटा हुआ दूध, छेना; —जननी—(स्त्री.) मठा; —जन्म—(पुं.) दही; —पिंड—(पुं.) छेना; —भिद्—(पुं.) कपित्थ, कैथ; —मांस—(पुं.) अखनौ; —मेह—(पुं.) एक प्रकार का रोग जिसमें मूत्र सफेद होता है और इसमें मठे के समान गन्ध रहती है; —वामन—(पुं.) नारंगी; —संधान—(पुं.) एक प्रकार की काँजी; —सार—(पुं.) मक्खन।
 तक्वा—(सं.वि.) गतिशील, जल्दी जानेवाला।
 तक—(सं. पुं.) रामचन्द्र के भाई भरत के ज्येष्ठ पुत्र का नाम, एक नाग।

तक्षक—(सं.पुं.) कद्रु के गर्भ से उत्पन्न एक सर्प का नाम, (शृङ्गी ऋषि के शाप को सफल करने के लिए इसने राजा परीक्षित को काटा था), विश्वकर्मा, एक प्राचीन अनार्य जाति, बढ़ई, प्रसेन-जित् के पुत्र का नाम, सूत्रधार, सर्पत्।
 तक्षकौय—(सं. वि.) सर्प सम्बन्धी।
 तक्षण—(सं.पुं.) लकड़ी को रँदकर स्वच्छ करने का काम, पत्थर, लकड़ी आदि को गढ़कर मूर्ति बनाने का काम।
 तक्षणी—(सं. स्त्री.) बढ़ई का रन्दा।
 तक्षन्—(सं. पुं.) बढ़ई, विश्वकर्मा, चित्रा नक्षत्र।
 तक्षशिला—(सं.स्त्री.) भरत के पुत्र तक्ष की राजधानी का नाम, (यह अत्यन्त प्राचीन नगर रावर्षिपीडी के पास था। यहीं पर राजा जनमेजय ने सर्पयज्ञ किया था।)
 तख्त—(फा. पुं.) राजा का सिंहासन, राजगद्दी।
 तख्त-ताऊस—(फा.पुं.) शाहजहाँ का वनवाया प्रसिद्ध रत्नजटित मयूराकार सिंहासन।
 तख्तनशीन—(फा. वि.) सिंहासनारूढ़।
 तख्तपोश—(फा. पुं.) चौकी पर विछाने की चादर, बड़ी चौकी।
 तख्ता—(हि. पुं.) लकड़ी का चीरा हुआ बड़ा पट्टा या पल्ला; (मुहा.)—उलटना—वरवाद हो जाना।
 तख्ती—(हि. स्त्री.) छोटा तख्ता, छोटी पट्टी, पट्टिया।
 तगड़ा—(हि.वि.) बलवान्, सवल, पुष्ट, बड़ा।
 तगड़ी—(हि. स्त्री.) देखें 'तागड़ी'।
 तगण—(सं. पुं.) छन्द-शास्त्र में तीन वर्णों का समूह जिसमें पहिले दो गुरु और अन्तिम लघु वर्ण होता है।
 तगना—(हि.क्रि.अ.) तागा चलाया जाना, सिला जाना।
 तगना—(हि. पुं.) देखें 'तमगा'।
 तगर—(सं. पुं.) नदी के समीप होनेवाला एक वृक्ष जिसकी सुगन्धित लकड़ी औषधों में प्रयुक्त होती है।
 तगला—(हि. पुं.) तकला, सरकंडे की दो हाथ लंबी छड़ी जिससे जुलाहे साँथी मिलते हैं।
 तगाई—(हि. स्त्री.) सिलाई का काम।
 तगाड़, तगाड़ा—(हि.पुं.) वह कुण्ड जिसमें मसाला, चूना आदि जोड़ाई करने के लिये साने जाते हैं।
 तगादा—(हि. पुं.) देखें 'तकाजा'।
 तगाना—(हि. क्रि. स.) तागने या सिलाने का काम दूसरे से कराना।

तगार—(हि.पुं.स्त्री.) ओखली गाड़ने का गढ़वा; गारा, चूना आदि रखने, बनाने या मिलाने का स्थान, हलवाइयों का मिठाई बनाने का पीतल का पात्र।
 तगारी—(हि. स्त्री.) छोटा तगार।
 तगियाना—(हि. क्रि. स.) देख 'तागना'।
 तगीर—(हि. पुं.) परिवर्तन।
 तगीरी—(हि. स्त्री.) देख 'तगीर'।
 तधार, तधारी—(हि.पुं.स्त्री.) देख 'तगार (री)'
 तचना—(हि. क्रि. अ.) तपना, जलना।
 तचाना—(हि. क्रि. स.) परितप्त करना, जलाना, दुखी करना।
 तचित—(हि. वि.) दुःखित।
 तच्छक—(हि. पुं.) देखें 'तक्षक'।
 तच्छिन—(हि. अव्य.) तत्क्षण, उसी समय, तत्काल।
 तज—(हि. पुं.) एक प्रकार का सदावहार वृक्ष जो दारचीनी की जाति का होता है, (इसके पत्त को तेजपत्ता कहते हैं। इसकी सुगन्धित छाल तज है जो औषधों में प्रयुक्त होती है।)
 तजन—(हि.पुं.) त्याग, परित्याग की क्रिया।
 तजना—(हि. क्रि. स.) त्यागना, छोड़ना।
 तजरवा—(अ. पुं.) अनुभव, वैज्ञानिक प्रयोग; —कार—(वि.) अनुभव।
 तजरवा—(हि. पुं.) देखें 'तजरवा'।
 तजरवाकार—(हि.वि.) देख 'तजरवाकार'।
 तज्जनित—(सं. वि.) उससे उत्पन्न।
 तज्जन्य—(सं. वि.) उससे उत्पन्न, उससे लगा हुआ।
 तज्ञ—(सं.वि.) तत्व को जाननेवाला, ज्ञानी।
 तटंक—(हि.पुं.) कान में पहिनने का एक प्रकार का गहना, कर्णफूल, देखें 'ताटंक'।
 तट—(सं. पुं.) नदी आदि का किनारा, तीर, कूल, ऊँची भूमि, क्षेत्र, प्रदेश, महादेव, शिव; (वि.) उन्नत, उठा हुआ; (अव्य.) पास-पास, निकट।
 तटका—(हि. वि.) देखें 'टटका', ताजा।
 तटग—(सं. पुं.) तड़ाग, सरोवर; (वि.) तट की ओर जानवाला।
 तटनी—(हि. स्त्री.) तटिनी, नदी, सरिता।
 तटस्थ—(सं. वि.) समीप, किनारे पर का, अलग रहनेवाला, निरपेक्ष, उदासीन प्रकृति का, व्यस्त, आश्चर्यान्वित, विस्मित; (पुं.) वह लक्षण जो किसी पदार्थ के स्वरूप को न वर्णन करके उसके गुण और धर्म का वर्णन करता है।
 तटाक—(सं. पुं.) सरोवर, तड़ाग, तालाव।
 तटाघात—(सं. पुं.) पशुओं का सींगों से भूमि खोदना।

तटिनी—(सं. स्त्री.) नदी, सरिता ।
तटी—(सं. स्त्री.) तीर, किनारा, नदी, तराई, घाटी ।
तट्य—(सं. पुं.) महादेव, शिव ।
तड़—(हि.पुं.) पक्ष, एक ही जाति में होने-वाला विभाग, दल, थप्पड़ आदि मारने या किसी वस्तु के पटकने से उत्पन्न शब्द, लाम का अवसर; —**बंदी**—(स्त्री.) दलबंदी, गुटबंदी ।
तड़क—(हि. स्त्री.) तड़कने की क्रिया, वह चिह्न जो तड़कने के कारण लकड़ी पर पड़ जाता है, स्वाद लेने की इच्छा, छाजन के नीचे लगाया जानेवाला बल्ला; —**भड़क**—(पुं.) ठाट-बाट ।
तड़कना—(हि.क्रि.अ.) चटकना, कड़कना, तड़तड़ शब्द करके फटना या टूटना, तीव्र शब्द करना; चिड़ना, झुंझलाना, बिगड़ना, उछलना, कूदना ।
तड़का—(हि. पुं.) प्रभात-काल, सबेरा, धी या तेल में मिर्च आदि को भूनकर तरकारी आदि में डालना, बघार ।
तड़काना—(हि. क्रि. स.) किसी सूखी वस्तु को इस प्रकार तोड़ना कि 'तड़' शब्द निकले, तीव्र शब्द करना, खिजलाना ।
तड़का—(हि. अव्य.) देखें 'तड़का' ।
तड़ाग—(सं. पुं.) तड़ाग, सरोवर ।
तड़तड़ाहट—(हि. स्त्री.) तड़तड़ाने की क्रिया ।
तड़प—(हि. स्त्री.) चमक, कड़क, तड़पने का काम; —**दार**—(वि.) चमकीला, भड़कीला ।
तड़पना—(हि. क्रि. अ.) व्याकुल होना, अधिक पीड़ा के कारण तड़फड़ाना, गरजना, चिल्लाना ।
तड़पवाना—(हि. क्रि. स.) तड़पाने का काम दूसरे से कराना ।
तड़पाना—(हि. क्रि. स.) कष्ट या वेदना से व्याकुल करना, किसी को तड़पन में प्रवृत्त करना ।
तड़फड़ाना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'तड़पना' ।
तड़फना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'तड़पना' ।
तड़ाक—(सं. पुं.) तड़ाग, ह्रद ।
तड़ाक—(हि. स्त्री.) किसी पदार्थ के तड़क के साथ टूटने का शब्द; (अव्य.) तड़ाक शब्द के साथ, चटपट, जल्दी से, तुरन्त ।
तडाका—(सं. स्त्री.) नदी या समुद्र का तट, आघात, चोट, प्रमा ।
तड़ाका—(हि. पुं.) तड़तड़ शब्द; (अव्य.) तुरत ।
तड़ाग—(सं. पुं.) तालाब, सरोवर, पुष्कर ।
तड़ागना—(हि. क्रि. अ.) कूद-फाँद करना, डींग हाँकना ।

तड़ातड़—(हि. अव्य.) तड़ तड़ शब्द करते हुए; (मुहा.) —जवाब देना—बेघड़क जवाब देना; —**पड़ना**—खूब पीटा जाना ।
तड़ाना—(हि. क्रि. स.) ताड़ने के लिये किसी दूसरे को प्रवृत्त करना ।
तड़ावा—(हि. पुं.) दिखावटी तड़क-भड़क, आडम्बर, छल-कपट, धोखा ।
तड़ि—(सं. स्त्री.) आघात, चोट; (वि.) चोट पहुँचानेवाला ।
तड़ित (ता)—(हि. स्त्री.) देखें 'तड़ित', बिजली ।
तड़ित्—(सं. स्त्री.) विद्युत्, बिजली; —**कुमार**—(पुं.) जैनों के एक देवता का नाम; —**पति**—(पुं.) मेघ, बादल; —**प्रभा**—(स्त्री.) कार्तिकेय की एक मात्रिका का नाम; (वि.) जिसमें बिजली के समान चमक हो; —**चत्**, —**वान्** (पुं.) मेघ, बादल, नागरमोथा; (वि.) जिसमें 'बिजली के सदृश चमक हो ।
तड़िद्गर्भ—(सं. पुं.) मेघ, बादल ।
तड़िन्मय—(सं. वि.) बिजली के स्वरूप का ।
तड़ी—(हि. स्त्री.) चपत, धौल, छल, कपट, धोखा, बहाना ।
तत—(सं. पुं.) एक प्रकार का तार का वाजा जो वीन के सदृश होता है; वायु, विस्तार, पिता, पुत्र, बेटा; (वि.) फैला हुआ, व्याप्त; (हि. वि.) तपा हुआ, गरम; (हि. पुं.) तत्त्व ।
ततकाल—(हि. अव्य.) देखें 'तत्काल' ।
ततताथेई—(हि. स्त्री.) नाचने का शब्द या बोल ।
ततपत्री—(सं. स्त्री.) केले का पेड़ ।
ततवाड—(हि. पुं.) देखें 'तंतुवाय' ।
ततवीर—(हि. स्त्री.) देखें 'तदवीर' ।
ततरी—(हि. स्त्री.) एक फलवाला वृक्ष ।
ततसार—(हि. स्त्री.) लोहा तपाने का स्थान ।
ततार्ई—(हि. स्त्री.) उष्णता, गरमी ।
ततारना—(हि. क्रि. स.) गरम पानी से धोना तपाकर धोना ।
तति—(सं. स्त्री.) श्रेणी, पंक्ति, ताँता, समूह, विस्तार, उतना परिमाण ।
ततया—(हि. स्त्री.) हड़डा, मिड़, बरें; (वि.) तीव्र, कष्ट देनेवाला ।
तत्—(सं. अव्य.) हेतु, लिये; (सर्व.) वह, उस; (पुं.) परब्रह्म या परमात्मा का एक नाम, वायु, हवा ।
तत्काल—(सं. पुं.) वर्तमान काल; (अव्य.) उसी समय, तुरंत ।
तत्कालधी—(सं. वि.) उपस्थित बुद्धि-वाला, प्रत्युत्पन्नमति ।

तत्काल-संभूत—(सं. वि.) उसी समय-उत्पन्न या होनेवाला ।
तत्कालीन—(सं. वि.) उसी काल या समयका ।
तत्क्रिय—(सं. वि.) बिना कुछ लिये कार्य करनेवाला ।
तत्क्षण—(सं. अव्य.) उसी समय, तत्काल, तुरत ।
तत्त—(हि. पुं.) देखें 'तत्त्व' ।
तत्ता—(हि. वि.) उष्ण, गरम, जलता हुआ ।
तत्ताथेई—(हि. स्त्री.) नाच का शब्द या बोल ।
तत्तुल्य—(सं. वि.) उसके समान ।
तत्तोयंबो—(हि. पुं.) दम-दिलासा, वह-लावा, झगड़ा शांत करना, बीच-बचाव ।
तत्त्व—(सं. पुं.) यथार्थता, वास्तविक स्थिति या स्वरूप, आरोपित स्वरूप, परमात्मा, चेतन वस्तु, सार वस्तु, सारांश, पंचभूत, यथा-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, संसार का मूल कारण, सत्त्व, रज और तम ।
तत्त्वज्ञ—(सं. पुं.) तत्त्वज्ञानी, जिसको ईश्वर विषयक ज्ञान उत्पन्न हुआ हो, ब्रह्मज्ञानी, दार्शनिक ।
तत्त्वज्ञान—(सं. पुं.) ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, यथार्थ रूप से प्रकृति और पुरुष (ब्रह्म) के भेद का ज्ञान ।
तत्त्वज्ञानी—(सं. पुं.) तत्त्वज्ञ, दार्शनिक, जिसको ब्रह्म, आत्मा, सृष्टि आदि के संबंध में यथार्थ ज्ञान हो ।
तत्त्वतः—(सं. अव्य.) वस्तुतः; यथार्थ रूप में ।
तत्त्वता—(सं. स्त्री.) यथार्थता, तत्त्व का भाव या गुण ।
तत्त्वदर्श—(सं. वि., पुं.) (वह) जिसको तत्त्वज्ञान प्राप्त हुआ हो ।
तत्त्वदर्शिन, **तत्त्वदर्शी**—(सं. वि., पुं.) दर्शनशास्त्र जाननेवाला, तत्त्वज्ञानी ।
तत्त्वदीपन—(सं. पुं.) तत्त्वज्ञान का संचार ।
तत्त्वदृष्टि—(सं. स्त्री.) वह दृष्टि जो तत्त्वज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो, दिव्य-चक्षु, ज्ञान-दृष्टि ।
तत्त्वनिरूपण—(सं. पुं.) तत्त्व का निर्णय ।
तत्त्वप्रकाश—(सं. पुं.) तत्त्वज्ञान की ज्योति ।
तत्त्वबोधिनी—(सं. स्त्री.) वह साधना जिसके द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त हो ।
तत्त्वभाव—(सं. पुं.) प्रकृति, स्वभाव ।
तत्त्वभाषी—(सं. वि.) यथार्थवादी, स्पष्ट रूप से कहनेवाला ।
तत्त्ववत्—(सं. वि.) तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण ।
तत्त्ववाद—(सं. पुं.) दर्शनशास्त्रसंबंधी विचार ।
तत्त्ववादी—(सं. पुं.) यथार्थवादी, वह जो तत्त्वज्ञान को जानता हो और उसका समर्थन करता हो, यथार्थ वात कहनेवाला ।

तत्त्वविद्—(सं.पुं.) तत्त्ववेत्ता, परमेश्वर ।
 तत्त्वविद्या—(सं. स्त्री.) दर्शनशास्त्र ।
 तत्त्ववेत्ता—(सं.पुं.) तत्त्वज्ञानी, दार्शनिक ।
 तत्त्वशास्त्र—(सं.पुं.) दर्शनशास्त्र ।
 तत्त्वसंचय—(सं.पुं.) बौद्ध दर्शन-शास्त्र का एक भेद ।
 तत्त्वानुसंधान—(सं.पुं.) तत्त्व या यथार्थताका अन्वेषण, सच्ची वात की जाँच-पड़ताल ।
 तत्त्वानुसंधानी—(सं. वि.) तत्त्व का अनुसंधान करनेवाला ।
 तत्त्वावधान—(सं. पु.) निरीक्षण, जाँच-पड़ताल, देखरेख ।
 तत्त्वावधारक—(सं.पुं.) तत्त्व का निरूपण करनेवाला ।
 तत्त्वावधारण—(सं. पुं.) यथार्थ बोध, तत्त्वनिर्णय ।
 तत्त्वावबोध—(सं. पुं.) देखें 'तत्त्वज्ञान' ।
 तत्पत्नी—(सं. स्त्री.) कदली वृक्ष, केले का पेड़ ।
 तत्पद—(सं. पुं.) परम-पद, निर्वाण ।
 तत्पदार्थ—(सं.पुं.) सृष्टिकर्ता, परमात्मा ।
 तत्पर—(सं. वि.) काम में लगा हुआ, उद्यत, उन्नद्ध, तैयार, निविष्ट, यत्न करनेवाला, निपुण, दक्ष, चतुर, सतर्क; -ता—(स्त्री.) निपुणता, दक्षता, चतुराई, यत्न, आग्रह ।
 तत्परायण—(सं. वि.) काम में लगा हुआ, काम में तत्पर ।
 तत्पुरुष—(सं.पुं.) व्याकरण में एक प्रकार का समास जिसमें उत्तरपद की प्रधानता होती है; एक रुद्र का नाम, ईश्वर, परमेश्वर, एक कल्प का नाम ।
 तत्पूर्व—(सं.वि.) सर्वप्रथम, सब से पहला ।
 तत्प्रकार—(सं.वि.,अव्य.) उसी तरह (का) ।
 तत्फल—(सं.पुं.) नील कमल, कूट नामक औषधि ।
 तत्र—(सं. अव्य.) उस स्थान पर, वहाँ; -भवान्—(वि.) पूज्य, मान्य, प्रशंसनीय ।
 तत्रापि—(सं.अव्य.) तथापि, तोभी ।
 तत्त्व—(सं.पुं.) देखें 'तत्त्व' ।
 तत्सदृश—(सं.वि.) तथाविध, उसके समान ।
 तत्सम—(सं.पुं.) हिन्दी, प्राकृत आदि भाषाओं में प्रयुक्त होनेवाला संस्कृत का शब्द ।
 तत्समानांतर—(सं. अव्य.) तदनन्तर, उसके बाद ।
 तत्स्वरूप—(सं. वि.) उसके समान, उसी के सदृश ।
 तथा—(सं. अव्य.) इसी तरह, ऐसे ही, और, निकट, समीप; (पुं.) पहिले कही हुई वात, सत्य, समानता, ।

तथागत—(सं. पुं.) गौतम बुद्ध; (वि.) उसी रूप में आये हुए ।
 तथागुण—(सं. वि.) वसा ही गुणवान् ।
 तथाच—(सं. अव्य.) तथापि, तोभी ।
 तथापि—(सं.अव्य.) तिस पर भी, तोभी ।
 तथाभावी—(सं. वि.) उसी स्वभाव का ।
 तथाभूत—(सं. वि.) जो उस प्रकार से हुआ हो ।
 तथामुख—(सं.अव्य.) उस ओर मुख करके ।
 तथारूप—(सं.वि.) तदनु रूप, उस प्रकार का ।
 तथाविध—(सं.वि.) तादृश, उस प्रकार का ।
 तथाविधेय—(सं. वि.) उस प्रकार किया जानेवाला ।
 तथास्तु—(सं. अव्य.) वैसा ही हो ।
 तथास्वर—(सं. वि.) उस तरह के उच्चारणवाला ।
 तथैव—(सं.अव्य.) उस तरह, वैसे ही ।
 तथ्य—(सं.पुं.) यथार्थता, सत्य, सचाई; -ज्ञान—(पुं.) यथार्थ ज्ञान, तत्त्वज्ञान; -बोध—(पुं.) तथ्यज्ञान, तत्त्वज्ञान; -भाषी, -वादी—(वि.) यथार्थ या सच्ची वात कहनेवाला ।
 तथ्यानुसंधान—(सं.पुं.) तत्त्वज्ञान का अन्वेषण ।
 तदंत—(सं. वि.) उस प्रकार समाप्त; (पुं.) अभिप्राय ।
 तदंतर, तदनंतर—(सं. अव्य.) उसके उपरान्त, उसके बाद ।
 तदंश—(सं. पुं.) उसका भाग या हिस्सा ।
 तदतिरिक्त—(सं.अव्य.) उसके अतिरिक्त, उसके सिवाय ।
 तदधिक—(सं.अव्य.) उसके अतिरिक्त, उसके अलावा ।
 तदनु—(सं. अव्य.) तदनंतर, उसी तरह, उसके बाद ।
 तदनु रूप—(सं. अव्य., वि.) उसी के समान रूप का, उसके अनुसार ।
 तदनुसार—(सं. वि.) उसके अनुसार ।
 तदनुसारी—(सं. वि.) उसके अनुसार चलनेवाला ।
 तदन्य—(सं. वि.) उससे भिन्न या पृथक् ।
 तदापि—(सं. अव्य.) तथापि, तोभी ।
 तदवीर—(अ. स्त्री.) यत्न, प्रयास, उपाय, युक्ति, प्रबंध ।
 तदभिन्न—(हिं. वि.) उसके समान, उसके जैसा ।
 तदर्थ—(सं. अव्य.) उसके लिये, उस प्रयोजन से ।
 तदपण—(सं. पुं.) उस पदार्थ का श्रपण ।
 तदवधि—(सं.अव्य.) तब तक ।
 तदा—(सं.अव्य.) उस समय, तब ।

तदाकार—(सं. वि.) तद्रूप, उसी आकार का, तन्मय, तल्लीन ।
 तदात्मा—(सं. वि.) उसके सदृश, तत्त्वस्वरूप ।
 तदानीं—(सं. अव्य.) उस समय, तब; -तन—(वि.) उस समय का ।
 तदाप्रभृति—(सं. अव्य.) उस समय से ।
 तदामुख—(सं.पुं.) आरम्भ, शुरू ।
 तदीय—(सं. वि.) उससे सम्बन्ध रखनेवाला, तत्सम्बन्धी, उसका ।
 तदुपरांत—(सं. अव्य.) उसके पीछे, उसके बाद ।
 तदुपरि—(सं. अव्य.) उसके ऊपर ।
 तदैक—(सं.वि.) तत्स्वरूप, उसके समान ।
 तदैकात्मा—(सं.वि.) उसके समान, उसके जसा ।
 तदौजस्य—(सं.वि.) उसके समान बलवान् ।
 तद्—(सं. वि.) वह; (अव्य.) तब, उस समय, तदनंतर, तदनन्तर ।
 नद्गत—(सं. वि.) उससे सम्बन्ध रखनेवाला, उसके अन्तर्गत ।
 तद्गुण—(सं. पुं.) वह अर्थालङ्कार जिसमें कोई पदार्थ अपने गुण को त्यागकर समीपवर्ती किसी दूसरे उत्तम पदार्थ के गुण को ग्रहण करता हुआ वर्णन किया जाता है; (वि.) उसके जैसे गुणवाला ।
 तद्दिन—(सं. पुं.) वह दिन, वह समय ।
 तद्धन—(सं. वि.) कृपण, कंजूस ।
 तद्धित—(सं. पुं.) व्याकरण में एक प्रकार का प्रत्यय जिसको संज्ञा में जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है; जैसे—'ता', 'त्व' आदि ।
 तद्भव—(सं. पुं.) संस्कृत शब्द का अपभ्रंश रूप जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है; जैसे—चक्र से चक्कर ।
 तद्भाव—(सं. पुं.) उसका असाधारण धर्म, विषय की चिन्ता ।
 तद्भिन्न—(सं.वि.) उससे भिन्न या पृथक् ।
 तद्यपि—(हिं. अव्य.) तथापि, तोभी ।
 तद्रूप—(सं.वि.) सदृश, समान, वैसा ही; -ता—(स्त्री.) सादृश्य, समानता ।
 तद्धत्—(सं.वि.,अव्य.) तत्सदृश, उसी के समान, ज्यों का त्यों, उसी तरह ।
 तद्दत्ता—(सं. स्त्री.) सदृशता, समानता ।
 तद्धिद्य—(सं.वि.) तथाविध, उसी तरह का ।
 तद्व्यतिरिक्त—(सं.वि.) उसके सिवाय ।
 तन—(सं.पुं.) वंशज, सन्तान; (हिं. पुं.) शरीर, देह, मूत्रेन्द्रिय, योनि; (मुहा.) -को लगना—चित्त पर प्रभाव पड़ना;

-इन्द्रा-ध्वाम सभाना; -मल मारना-
इन्द्रियों को धपने वश में करना ।

तन- (हि. अव्य.) धोर; (वि.) थोड़ा-सा ।

तनक- (हि. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।

तनकना- (हि. क्रि. अ.) देखें 'तिनकना' ।

तनसाह- (हि. स्त्री) वेतन ।

तनगना- (हि. क्रि. अ.) श्लोघ करना ।

तनजेब- (हि. स्त्री., पुं.) तंजैब ।

तनतनाना- (हि. क्रि. अ.) रोप दिख-
छाना, श्लोघ करना ।

तनत्राण- (हि. पुं.) कवच ।

तनवर- (हि. वि.) देखें 'तनुधारी' ।

तनना- (हि. क्रि. अ.) झटके या खिंचाव के
कारण किसी पदार्थ का फैलना, वेग से
खिंचना, अकड़कर खड़ा होना, गर्व से
एठना, रुष्ट होना ।

तनपात- (हि. पुं.) देखें 'तनुपात' ।

तनपोषक- (हि. वि.) स्वार्थपरायण, स्वार्थी ।

तनमय- (हि. वि.) देखें 'तन्मय' ।

तनय- (सं. पुं.) पुत्र, लड़का, बेटा,
चन्द्रवंशी राजा कुश के पुत्र का नाम ।

तनया- (सं. स्त्री.) कन्या, पुत्री, बेटी,
भृत्कुमारी, काली तुलसी ।

तनराग- (हि. पुं.) देख 'तनुराग' ।

तनरुह- (हि. पुं.) रोयाँ, पंख ।

तनवाना- (हि. क्रि. सं.) तानने का काम
दूसरे से कराना ।

तनुसुख- (हि. पुं.) एक प्रकार का
दुन्दर फूलदार कपड़ा ।

तनहा- (फा. वि.) अकेला, बिना संग-
साथ का; (अव्य.) अकेले ।

तनहाई- (फा. स्त्री.) अकेलापन, एकांत ।

तना- (सं. स्त्री.) बन-दौलत; (फा. पुं.)
वृक्ष का घड़; (अव्य.) धोर ।

तनाउ- (हि. पुं.) देखें 'तनाव' ।

तनाकु- (हि. अव्य.) तनिक, थोड़ा ।

तनाजा- (अ. पुं.) झगड़ा, बखेड़ा ।

तनाना- (हि. क्रि. सं.) तानने का काम
दूसरे से कराना ।

तनाय, तनाव- (हि. पुं.) तानने का भाव
या क्रिया, घोषी की कपड़े सुखाने की रस्ती ।

तनि, तनिक- (हि. वि.) अल्पमात्र, थोड़ा,
कम, छोटा; (अव्य.) थोड़ा, जरा ।

तनिका- (सं. स्त्री.) किसी वस्तु को
वाँधने की रस्ती ।

तनिर्या- (हि. स्त्री.) लेंगोट, कौपीन,
कछनी, जाँघिया, चोली ।

तनिष्ठ- (सं. वि.) अति दुर्बल ।

तनी- (हि. स्त्री.) अँगरखे आदि में पल्ला
वाँधने के लिये लगा हुआ बन्द, बन्धन;

(अव्य.) तनिक, थोड़ा ।

तनु- (सं. पुं.) शरीर, देह, चमड़ा,
त्वचा; जन्म-कुण्डली में लग्न का स्थान,
प्रकृति; (वि.) कृश, दुबला-पतला,
अल्प, थोड़ा, सुन्दर, कोमल ।

तनुक- (सं. पुं.) शरीर, देह, दारचीनी ।

तनुकूप- (सं. पुं.) शरीर का रोमकप ।

तनुगृह- (सं. पुं.) ज्योतिष के अनुसार
एक प्रकार का घर ।

तनुच्छब- (सं. पुं.) शरीर की रक्षा करने-
वाला कवच ।

तनुच्छाय- (सं. पुं.) शरीर की परछाई;
(वि.) थोड़ी छायावाला ।

तनुज- (सं. पुं.) पुत्र, लड़का, बेटा ।

तनुजा- (सं. स्त्री.) पुत्री, बेटी, लड़की ।

तनुता- (सं. स्त्री.) कृशता, दुर्बलता,
लघुता, छोटाई ।

तनुत्यज- (सं. वि.) शरीर का त्याग
करनेवाला ।

तनुत्याग- (सं. पुं.) शरीर-त्याग, मरण ।

तनुत्र, तनुत्राण- (सं. पुं.) वह वस्तु
जिससे आक्रमण से रक्षा हो, कवच ।

तनुत्वच- (सं. वि.) पतली छालवाला ।

तनुधारी- (सं. वि.) शरीरधारी, देह
धारण करनेवाला ।

तनुपत्र- (सं. पुं.) इंगुदी का वृक्ष; (वि.)
जिसमें बहुत कम पत्ते हों ।

तनुपात- (सं. पुं.) मृत्यु, मौत ।

तनुवीज- (सं. वि.) जिसके बीज छोटे हों ।

तनुभव- (सं. पुं.) पुत्र, बेटा ।

तनुभवा- (सं. स्त्री.) कन्या, बेटी ।

तनुभस्त्रा- (सं. स्त्री.) नासिका, नाक ।

तनुभाव- (सं. पुं.) दुर्बल मनुष्य ।

तनुभूत्- (सं. वि.) देहधारी, शरीर
धारण करनेवाला ।

तनुमध्या- (सं. स्त्री.) कृशमध्या, जिस
स्त्री की कमर पतली हो, चौरस नामक
वर्णवृत्त ।

तनुरस- (सं. पुं.) धर्म, पसीना ।

तनुराग- (सं. पुं.) केसर, कस्तूरी, चन्दन,
अगर आदि मिलाकर बनाया हुआ
उबटन ।

तनुरुह- (सं. पुं.) शरीर पर के बाल या रोएँ ।

तनुल- (सं. वि.) विस्तृत, फैला हुआ ।

तनुवात- (सं. पुं.) एक नरक का नाम,
वह स्थान जहाँ वायु कम हो ।

तनुवार- (सं. पुं.) कवच, बस्तर ।

तनुवीज- (सं. वि.) जिसके बीज छोटे हों ।

तनुव्रण- (सं. पुं.) दल्मीक रोग ।

तनुसर- (सं. पुं.) धर्म, स्वेद, पसीना ।

तनुहृद- (सं. पुं.) मलद्वार, गुदा ।

तनु- (सं. पुं.) पुत्र, बेटा, शरीर, प्रजापति,
गाय, जल, पानी ।

तनुकरण- (सं. पुं.) छोटा करने की क्रिया ।

तनुछत- (सं. वि.) छोटा किया हुआ ।

तनुज- (सं. पुं.) तनुज, पुत्र, बेटा ।

तनुजा- (सं. स्त्री.) कन्या, पुत्री, बटी ।

तनुत्यज- (सं. वि.) शरीर छोड़नेवाला ।

तनुदेश- (सं. पुं.) शरीर का अंग-प्रत्यंग ।

तनुद्भव- (सं. पुं.) पुत्र, बेटा ।

तनुद्भवा- (सं. स्त्री.) कन्या, पुत्री ।

तनुनप- (सं. पुं.) घृत, घी ।

तनुपा- (सं. पुं.) जठराग्नि; (वि.) शरीर
का पालन-पोषण करनेवाला ।

तनुबल- (सं. पुं.) शरीर का बल ।

तनुरुह- (सं. पुं.) रोम, रोयाँ, पुत्र, बेटा ।

तनेना, तनेन- (हि. वि.) तिरछा, खिंचा
हुआ, टेढ़ा, क्रुद्ध ।

तने- (हि. पुं.) देखें 'तनय', बेटा ।

तनेला- (हि. पुं.) एक प्रकार का सुगन्धित
सफेद फलों का पौधा ।

तनोज- (हि. पुं.) रोम, पुत्र ।

तनोरुह- (हि. पुं.) देख 'तनुरुह' ।

तना- (हि. पुं.) दुनाई में लगे बल का
सूत जो ताना जाता है, ऐसा पदार्थ
जिस पर सूत आदि ताना जाता है ।

तन्निमित्त- (सं. अव्य.) तदर्थ, उसके लिये ।

तन्नी- (हि. स्त्री.) एक प्रकार की लोहे की
मल खुरचने की छेनी, जहाज के मस्तूल
की जड़ में बँधा हुआ रस्ता, तराजू की
रस्ती जिसमें पल्ले बँधे होते हैं ।

तन्मध्यस्थ- (सं. वि.) उसके बीच का ।

तन्मय- (सं. वि.) दत्तचित्त, मन लगाये
हुए, लवलीन, लगा हुआ; -ता- (स्त्री.)
एकाग्रता, लीनता, लगन ।

तन्मनस्क- (सं. वि.) तन्मय ।

तन्मयासक्ति- (सं. स्त्री.) भगवान में
दत्तचित्त होने की अवस्था ।

तन्मात्र- (सं. पुं.) सांख्य मत के अनु-
सार पंचभूत अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप,
रस और गन्ध का सूक्ष्म अमिश्र रूप ।

तन्मात्रा- (सं. स्त्री.) देखें 'तन्मात्र' ।

तन्मात्रिक- (सं. वि.) तन्मात्र संबंधी ।

तन्वंग- (सं. वि.) सुकुमार शरीरवाला ।

तन्वंगी- (सं. वि. स्त्री.) सुकुमार अंगों-
वाली ।

तन्वी- (सं. स्त्री.) कृशांगी, वह स्त्री जो
दुर्बल और कोमल हो, श्रीकृष्ण की एक
स्त्री का नाम, एक छन्द का नाम जिसके
प्रत्येक चरण में चौबीस वर्ण होते हैं ।

तपःकृश—(सं. वि.) जिसका शरीर तपस्या करने से दुर्बल हो गया हो।
 तपःप्रभाव—(सं.पुं.) तपस्या का प्रभाव।
 तपःशील—(सं.वि.,पुं.) (वह) जो तपस्या में लीन हो।
 तपःसिद्ध—(सं. वि., पुं.) (वह) जिसने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की हो।
 तप—(सं.पुं.) शरीर को कष्ट देकर चित्त को एकाग्र करने की क्रिया, तपस्या, ग्रीष्मकाल, ज्वर, अग्नि, नियम।
 तपकना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'टपकना,' उछलना, घड़कना।
 तपती—(सं. स्त्री.) सूर्य की कन्या का नाम।
 तपन—(सं. पुं.) सूर्य, मिलावाँ का वृक्ष, मदार, ग्रीष्मकाल, एक नरक का नाम, सूर्यकान्त मणि, अरणी का वृक्ष, जलन, दाह, ताप, आँच, धूप, शिव, महादेव, वह हाव-भाव या क्रिया जो नायिका अपने प्रेमी के वियोग में दिखलाती है।
 तपनक—(सं. पुं.) एक प्रकार का धान।
 तपनकर—(सं. पुं.) सूर्य की किरण।
 तपनच्छद—(सं. पुं.) मदार का पेड़।
 तपन-तनय—(सं. पुं.) सूर्य के पुत्र यम, शनि, सुग्रीव।
 तपन-तनया—(सं. स्त्री.) शमी वृक्ष, यमुना नदी।
 तपनमणि—(सं. पुं.) सूर्यकान्त मणि।
 तपनांशु—(सं. पुं.) सूर्य की किरण।
 तपना—(हि. क्रि. अ.) सन्तप्त होना, कष्ट सहना, तप्त होना, गरम होना, गरमी फलाना, प्रवलता दिखलाना, तपस्या करना, बुरे काम में धन व्यय करना।
 तपनात्मज—(सं. पुं.) सूर्य के पुत्र, यम, कर्ण।
 तपनात्मजा—(सं. स्त्री.) यमुना, गोदावरी।
 तपनि—(हि. स्त्री.) देखें 'तपन'।
 तपनी—(हि. स्त्री.) वह स्थान जहाँ पर बठकर जाड़े के दिनों में लोग आग तापते हैं, कौड़ा, तपस्या, तप।
 तपनीय—(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना, बतूरा।
 तपनेष्ट—(सं. पुं.) तात्र, ताँवा।
 तपनेष्टा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का शमीवृक्ष।
 तपनीपल—(सं. पुं.) सूर्यकान्त मणि।
 तपभूमि—(हि. स्त्री.) देखें 'तपोभूमि'।
 तपराशि—(हि. पुं.) देखें 'तपोराशि'।
 तपोलोक—(हि. पुं.) देख 'तपोलोक'।
 तपवाना—(हि. क्रि. स.) गरम करने का काम दूसरे से कराना, निष्प्रयोजन व्यय करवाना।
 तपवृद्ध—(हि. वि.) देखें 'तपोवृद्ध'।
 तपश्चरण, तपश्चर्या—(सं. पु., स्त्री.) तप,

तपस्या।
 तपस—(सं. पुं.) सूर्य, चन्द्रमा, पक्षी।
 तपसा—(हि. स्त्री.) तप, तपस्या, ताप्ती नदी।
 तपसाली—(हि. वि., पुं.) तपस्वी।
 तपसी—(हि. पुं.) तपस्या करनेवाला।
 तपस्पति—(सं. पुं.) विष्णु, हरि।
 तपस्या—(सं. स्त्री.) तप, व्रतचर्या, कठिन साधना।
 तपस्विता—(सं. स्त्री.) तपस्वी होने की अवस्था।
 तपस्विनी—(सं. स्त्री.) तपस्या करनेवाली स्त्री, जटामासी, कुटकी, दीन-दुखिया स्त्री, पतिव्रता स्त्री, तपस्वी की स्त्री।
 तपस्वी—(सं. वि., पुं.) तपस्या करनेवाला मनुष्य, दीन, दुखिया, धीकुआर, नारद।
 तपस्वीपत्र—(सं. पुं.) दौने का पौधा।
 तपा—(सं. पुं.) ग्रीष्मऋतु; (हि. पुं.) तपस्वी।
 तपाक—(फा. पुं.) उत्साह, आवेश, जोश।
 तपात्यय—(सं. पुं.) वर्षाकाल, बरसात।
 तपाना—(हि. क्रि. स.) तप्त करना, गरम करना, क्लेश देना, दुःख देना।
 तपाव—(हि. पुं.) ताप, गरम करना।
 तपित—(सं. वि.) तप्त, उष्ण, गरम, तपा हुआ; (पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति।
 तपिया—(हि. पुं.) तपस्वी।
 तपिष्ठ—(सं. वि.) अधिक तपा हुआ।
 तपिष्णु—(सं. वि.) जलन उत्पन्न करनेवाला।
 तपी—(हि. पुं.) तपस्वी, ऋषि, सूर्य।
 तपु—(सं. वि.) तप्त, गरम; (पुं.) सूर्य, अग्नि, शत्रु।
 तपुषी—(सं. स्त्री.) क्रोध, रोष, गुस्सा।
 तपेदिक—(फा. पुं., स्त्री.) यक्ष्मा, जीर्ण ज्वर।
 तपोज—(सं. वि.) अग्निजात, अग्नि से उत्पन्न।
 तपोजा—(सं. स्त्री.) जल, पानी।
 तपोड़ी—(हि. स्त्री.) काठ का बना हुआ पात्र।
 तपोधन—(सं. पुं.) तपोरत, बड़ा तपस्वी।
 तपोधना—(सं. स्त्री.) गोरखमुण्डी।
 तपोधर्म—(सं. पुं.) तपस्या का धर्म, तपस्वी।
 तपोधाम—(सं. पुं.) एक प्रधान तीर्थ का नाम।
 तपोधत—(सं. पुं.) तपोरत, तपस्वी।
 तपोनिधि—(सं. पुं.) देखें 'तपोधन'।
 तपोनिष्ठ—(सं. पुं.) तपोरत, तपस्वी।
 तपोबल—(सं. पुं.) तप का प्रभाव या शक्ति।
 तपोभूमि—(सं. स्त्री.) तपस्या करने का स्थान, तपोवन।
 तपोमय—(सं. पुं.) तपवाला, परमेश्वर।
 तपोमयी—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसने बहुत तपस्या की हो।
 तपोमूर्ति—(सं. पुं.) परमेश्वर, तपस्वी।

तपोयुक्त—(सं. वि.) तपस्या से पूर्ण।
 तपोरत—(सं. वि.) जो तपस्या में लीन हो।
 तपोरवि—(सं. पुं.) जो सूर्य के समान तेजयुक्त हो।
 तपोराशि—(सं. पुं.) बड़ा तपस्वी।
 तपोलोक—(सं. पुं.) उर्ध्व-स्थित सात लोकों में, छठा लोक।
 तपोवन—(सं. पुं.) मुनियों का आश्रय-स्थान, वह निर्जन स्थान जहाँ ऋषि लोग कुटी बनाकर तपस्या करते हैं।
 तपोवृद्ध—(सं. वि.) जो तपस्या के विचार से श्रेष्ठ हो।
 तपोनी—(हि. स्त्री.) ठगों की एक रस्म।
 तप्त—(सं. वि.) दग्ध, तपा हुआ, जलता हुआ, उष्ण, गरम, दुःखित, पीड़ित;
 -क—(पुं.) सोना, चाँदी, सुवर्णमाक्षिक;
 -कांचन—(पुं.) अग्नि में तपाकर शुद्ध किया हुआ सोना; -कुंड—(पुं.) प्राकृतिक उष्ण जलधारा, गरम पानी का सोता, एक भयानक नरक का नाम;
 -कृच्छ्र—(पुं.) बारह दिनों में समाप्त होनेवाला एक प्रकार का व्रत जो प्रायश्चित्त के रूप में किया जाता है; -खल्ल—(पुं.) औषध कूटने का गरम किया हुआ खरल; -माघ—(पुं.) प्राचीन काल की एक प्रकार की परीक्षा जो किसी मनुष्य को अपराधी या निरपराध सिद्ध करने के लिये की जाती थी;
 -मुद्रा—(स्त्री.) शंख, चक्र आदि के छापे जिनको लोहा या पीतल तपाकर वैष्णव लोग अपने शरीर पर दागते हैं;
 -रूपक—(पुं.) तपायी हुई चाँदी;
 -लोमश—(पुं.) कसीस नामक धातु;
 -लोह—(पुं.) एक नरक का नाम;
 -शर्मा—(पुं.) एक नरक का नाम।
 तप्तांभ—(सं. पुं.) गरम जल।
 तप्तान्न—(सं. पुं.) गरम भात, तप्त अन्न।
 तप्प—(हि. पुं.) देखें 'तप', तपस्या।
 तफरीह—(अ. स्त्री.) मनवहलाव, आमोद, दिल्लगी, हँसी।
 तव—(हि. अव्य.) उस समय, उस वक्त, इस कारण से, इसलिय।
 तवक—(अ. पुं.) परत, तह, चाँदी-सोने के पत्तों को पीटकर बनाया हुआ बरक।
 तवदील—(अ. वि.) परिवर्तित, बदला हुआ।
 तवदीली—(अ. स्त्री.) परिवर्तन, स्थानांतरण।
 तवलची—(हि. पुं.) तबला बजानेवाला।
 तबला—(हि. पुं.) ताल देने का चमड़ा मढ़ा हुआ एक प्रसिद्ध वाजा।

तबलिया—(हि. पुं.) तबलची ।
 तबाह—(फा. वि.) बरवाद, नष्ट ।
 तबाही—(फा. स्त्री.) नाश, बरवादी ।
 तबादला—(अ. पुं.) बदला जाना, परिवर्तन, कर्मचारी का स्थानांतरण ।
 तबीअ(य)त—(अ. स्त्री.) चित्त, मन, दिल; (मुहा.)—आना—किसी पर आसक्त होना;—फिरना—जी हटना ।
 तबीअ(य)तदार—(फा. वि.) सहृदय, रसिक, भावुक, प्रेमी, समझदार ।
 तबेला—(हि. पुं.) घोड़साल ।
 तब्बर—(हि. पुं.) पुत्र, टाबर ।
 तभी—(हि. अव्य.) उसी समय, इस कारण से ।
 तमंग, तमंगक—(सं. पुं.) मचान ।
 तमंचर—(हि. पुं.) निशाचर, राक्षस, उल्लू पक्षी ।
 तमःप्रभ(भा)—(सं. पुं., स्त्री.) जैन शास्त्रके अनुसार छठा नरक जहाँ घोर अन्धकार है ।
 तम—(सं. पुं.) अन्धकार, अँधेरा, पैर का अगला भाग, राहु ।
 तमक—(सं. पुं.) श्वास-रोग का एक भेद, (हि. पुं.) उद्वेग, जोश, तीव्रता, क्रोध, तमतमाहट ।
 तमकना—(हि. क्रि. अ.) क्रोध का आवेश दिखलाना, क्रोध के कारण उछल पड़ना ।
 तमकश्वास—(सं. पुं.) श्वास का एक भयंकर रोग जिसमें कण्ठ रुद्ध हो जाता है ।
 तमका—(सं. स्त्री.) तमाल वृक्ष, भुईआँवला ।
 तमगा—(तु. पुं.) सोने या चाँदी का पदक ।
 तमगुन—(हि. पुं.) देखें 'तमोगुण' ।
 तमचुर, तमचोर—(हि. पुं.) ताँत्रचूड, कुक्कुट, मुरगा ।
 तमत—(सं. वि.) इच्छुक, प्यासा ।
 तमतमाना—(हि. क्रि. अ.) अधिक गरमी या क्रोध के कारण चेहरा लाल होना, चमकना, दमकना ।
 तमतमाहट—(हि. स्त्री.) तमतमान का भाव ।
 तमज्ञा—(अ. स्त्री.) इच्छा, मनोकामना ।
 तमप्रभ(भा)—(सं. पुं., स्त्री.) एक नरक का नाम ।
 तमरंग—(हि. पुं.) एक प्रकार का नींबू, नीमा ।
 तमर—(सं. पुं.) बंग घातु, राँगा; (हि. पुं.) अन्धकार, अँधेरा ।
 तमलेट—(हि. पुं.) एक प्रकार का टीन या लोहे का छोटा पात्र ।
 तमस—(सं. पुं.) अन्धकार, अज्ञान, पाप, तमसा नदी ।
 तमसाकृत—(सं. वि.) अन्धकार से घिरा हुआ ।
 तमस्क—(सं. वि.) तमस्वरूप ।
 तमस्कांड—(सं. पुं.) घना अन्धकार ।

तमस्तति—(सं. स्त्री.) तमिस्र, अन्धकार ।
 तमस्वती—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात, हल्दी ।
 तमहर—(हि. पुं.) देखें 'तमोहर' ।
 तमा—(सं. स्त्री.) काकोली, भुईआँवला, रात्रि, रात, तमाल वृक्ष ।
 तमाई—(हि. पुं.) खेत जोतने के पहिले उसमें की घास आदि निकालने की क्रिया ।
 तमाकू, तमाखू—(हि. पुं.) एक प्रकार का प्रसिद्ध पौधा जिसके पत्ते तथा डंठल को लोग खाते और जलाकर धूम्रपान करते हैं, तंबाकू ।
 तमाचा—(हि. पुं.) थपड़ ।
 तमाचारी—(सं. पुं.) निशाचर, राक्षस ।
 तमादी—(अ. स्त्री.) मुकदमे की या किसी अधिकार की अवधि या मुद्दत बीत जाना ।
 तमाम—(अ. वि.) पूरा, संपूर्ण, समाप्त, खतम; (मुहा.) काम तमाम होना—मर जाना ।
 तमामी—(हि. स्त्री.) तमाम होने का भाव या स्थिति, समाप्ति ।
 तमारि—(सं. पुं.) दिनकर, सूर्य ।
 तमाल—(सं. पुं.) एक बड़ा सदावहार सुन्दर वृक्ष, पत्रक, तेजपात, तिलक का वृक्ष, एक तरह की तलवार, काले खर का वृक्ष, बाँस की छाल, काला तिल, दारचीनी;—क—(पुं.) पत्रक, तेजपात, एक प्रकार का भूमि में होनेवाला कमल;—च्छद—(पुं.) तेजपत्र, तेजपात;—पत्र—(पुं.) दारचीनी ।
 तमाली—(सं. स्त्री.) वरुण वृक्ष, मजीठ ।
 तमाशबिन—(हि. पुं.) तमाशा देखनेवाला, वेश्यागामी ।
 तमाशबिनी—(हि. स्त्री.) वेश्यागमन, रंडीबाजी ।
 तमाशा—(अ. पुं.) मनोरंजक दृश्य, खेल, प्रदर्शन आदि, अनोखी बात ।
 तमि—(सं. पुं.) रात्रि, रात, मोह, हरिद्रा, हल्दी ।
 तमिनाथ—(सं. पुं.) निशानाथ, चन्द्रमा ।
 तमिस्र—(सं. पुं.) अन्धकार, क्रोध, गुस्सा, एक नरक का नाम;—पक्ष—(पुं.) कृष्णपक्ष ।
 तमिन्ना—(सं. स्त्री.) अँधेरी रात, अमा वस्या की रात, हरिद्रा, हल्दी ।
 तमी—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात, हरिद्रा, हल्दी ।
 तमीचर—(सं. पुं.) निशाचर, दैत्य ।
 तमीज—(अ. स्त्री.) विवेक पहचान, अदब, कायदा ।
 तमीपति, तमीश—(सं. पुं.) निशाचर, चन्द्रमा ।
 तमेरु—(सं. वि.) ग्लानियुक्त, जिसको

लज्जा आती हो ।
 तमोग—(सं. पुं.) राहु ग्रह ।
 तमोगाम्भी—(सं. वि.) अन्धकार में जानेवाला ।
 तमोगुण—(सं. पुं.) प्रकृति का तृतीय गुण, (इसके प्राधान्य से मनुष्य बुरे से बुरा काम करता है ।)
 तमोगुणी—(सं. वि.) जिसमें तमोगुण की अधिकता हो ।
 तमोघ्न—(सं. वि.) अन्धकार का नाश करनेवाला; (पुं.) सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, बुद्ध, विष्णु, महादेव, ज्ञान, दीपक ।
 तमोज्योति—(सं. पुं.) खद्योत, जगन् ।
 तमोदर्शन—(सं. पुं.) पित्त के प्रकोप से उत्पन्न ज्वर ।
 तमोनुद—(सं. पुं.) सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, दीपक; (वि.) जिसमें अन्धकार न हो; अज्ञाननाशक ।
 तमोभिद—(सं. पुं.) खद्योत, जगन्; (वि.) अँधेरा दूर करनेवाला ।
 तमोभूत—(सं. वि.) अँधेरा छाया हुआ, अज्ञानी, मूर्ख ।
 तमोमणि—(सं. पुं.) जगन्, गोमेदक मणि ।
 तमोमय—(सं. वि.) अन्धकारपूर्ण, तमोगुण-युक्त, अज्ञानी, मूर्ख; (पुं.) राहु ग्रह ।
 तमोर—(हि. पुं.) ताम्बूल, पान ।
 तमोरि—(सं. पुं.) सूर्य, मानु ।
 तमोरी—(हि. पुं.) तमोली, पान बचनेवाला ।
 तमोल—(हि. पुं.) पान का बीड़ा, ताम्बूल ।
 तमोलिन—(हि. स्त्री.) तमोली की स्त्री ।
 तमोली—(हि. पुं.) तँवोली, पान बचनेवाला ।
 तमोविकार—(सं. पुं.) तमोगुण का विकार, तमिस्र, रात्रि, रात ।
 तमोहन—(सं. वि.) अज्ञाननाशक; (पुं.) सूर्य, चन्द्र ।
 तमोहर—(सं. वि.) अज्ञाननाशक, अन्धकार दूर करनेवाला; (पुं.) सूर्य, चन्द्रमा ।
 तमोहारो—(सं. पुं.) सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, ज्ञान ।
 तय—(अ. वि.) पूरा किया हुआ, समाप्त ।
 तयना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'तपना' ।
 तयार—(हि. वि.) देखें 'तैयार' ।
 तरंग—(सं. पुं.) लहर, हिलोरा, वस्त्र, कपड़ा, चित्त की उमंग, मन की मौज, संगीत में स्वरों का उतार-चढ़ाव, हाथ में पहिने की एक प्रकार की चूड़ी ।
 तरंगक—(सं. पुं.) देखें 'तरंग' ।
 तरंगवती—(सं. स्त्री.) तरंगिणी, नदी ।
 तरंगिणी—(सं. स्त्री.) सरिता, नदी ।
 तरंगित—(सं. वि.) लहराता हुआ, हिलोरा मारता हुआ, चंचल, चपल

नीचे-ऊपर उठता हुआ ।
 तरंगी—(सं. वि.) तरंगयुक्त, जिसमें लहर हो, आनन्द लेनेवाला, मनमौजी ।
 तर—(सं. पुं.) पार करने की क्रिया, अग्नि, वृक्ष, पथ, गति, नाव की उतराई ।
 तर—(सं. प्रत्य.) यह गुणवाचक विशेषणों में दो वस्तुओं में से एक का उत्कर्ष या अपकर्ष सूचित करने के लिये प्रयुक्त होता है, यथा—श्रेष्ठतर, बृहत्तर ।
 तर—(फा. वि.) भीगा हुआ; (हि. अव्य.) नीचे ।
 तरई—(हि. स्त्री.) तारा, नक्षत्र ।
 तरक—(हि. स्त्री.) देख 'तड़क'; (पुं.) सोच-विचार, ऊहापोह, तर्क, चतुराई की उक्ति, व्यतिक्रम, भूलचूक, वह अक्षर या शब्द जो पृष्ठ के समाप्त होने पर उसके नीचे किनारे की ओर लिखा जाता है ।
 तरफना—(हि. क्रि. श्र.) तर्क करना, सोच-विचार करना, झपटना, उछलना, कूदना, देखें 'तड़कना' ।
 तरकश, तरकस—(फा., हि. पुं.) तीर रखने का घोगा ।
 तरकसी—(हि. स्त्री.) छोटा तरकश ।
 तरकारी—(हि. स्त्री.) वह पौधा जिसके फल, फूल, पत्ते आदि पकाकर खाये जाते हैं, पकाकर तैयार इस प्रकार की खाद्य वस्तु, शाक, सब्जी ।
 तरकी—(हि. स्त्री.) कान में पहिनने का एक प्रकार का गहना ।
 तरकीव—(अ. स्त्री.) उपाय, तरीका, ढंग ।
 तरकुला—(हि. पुं.) कान में पहिनने का एक प्रकार का गहना ।
 तरकुली—(हि. स्त्री.) कान का एक प्रकार का गहना ।
 तरक्की—(अ. स्त्री.) उत्पत्ति, पद-वृद्धि, बढ़ती ।
 तरक्षु—(सं. पुं.) व्याघ्र विशेष, लकड़वाघा ।
 तरखा—(हि. पुं.) जल का तीव्र प्रवाह, नदी के पानी का बहाव ।
 तरखान—(हि. पुं.) वह जो लकड़ी का काम करता हो, बढई ।
 तरगुलिया—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का अक्षत रखने का छिछला वस्त्रन ।
 तरचरवी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का सुन्दर पत्तियोंवाला पौधा ।
 तरछट—(हि. स्त्री.) देखें 'तलछट' ।
 तरछा—(हि. पुं.) वह स्थान जहाँ तेली गोबर जमा करता है ।
 तरज—(हि. पुं.) विधि, प्रकार, देखें 'तर्ज' ।
 तरजना—(हि. क्रि. अ.) डाँटना, उपटना, ताड़ना देना, मला-बुरा कहना, बिगड़ना ।

तरजनी—(हि. स्त्री.) तर्जनी, अँगूठे के पास की अँगुली, भय, डर ।
 तरजीला—(हि. वि.) क्रोधयुक्त ।
 तरजूई—(हि. स्त्री.) छोटा तराजू ।
 तरजूमा—(अ. पुं.) उलथा, अनुवाद ।
 तरट—(सं. पुं.) चकवँड़ का क्षुप ।
 तरण—(सं. पुं.) पानी पर तैरना, तरना, बड़ा, स्वर्ग, बड़े पर बैठकर दूर देश को जाना, नदी पार करने की क्रिया, निस्तार, उद्धार ।
 तरणि—(सं. पुं.) सूर्य, मदार का वृक्ष, बेड़ा, किरण, ताँवा, नाव, घोकुआर; (वि.) उद्धार करनेवाला, शीघ्र जानेवाला; -कुआर—(पुं.) देखें 'तरणिसुत'; -जा—(स्त्री.) सूर्य की कन्या, यमुना, एक वर्णवृत्त का नाम; तनय—(पुं.) सूर्य के पुत्र, यम, शनि, कर्ण; -तनजा—(स्त्री.) देखें 'तरणिजा'; -घन्य—(पुं.) शिव, महादेव; -पेटक—(पुं.) नाव का पानी फेंकने का पात्र; -रत्न—(पुं.) पद्मराग मणि; -सुत—(पुं.) देखें 'तरणितनय' ।
 तरणी—(सं. स्त्री.) नौका, नाव, स्थल-कमलिनी, घृतकुमारी, घोकुआर ।
 तरणीय—(सं. वि.) पार करने योग्य ।
 तरतम—(सं. वि.) न्यूनार्थिक, थोड़ा-बहुत ।
 तरतराता—(हि. वि.) घी से तर (पकवान) ।
 तरतराना—(हि. क्रि. अ.) तड़तड़ शब्द करना, तड़तड़ाना, घी से तर होना ।
 तर्तबि—(अ. स्त्री.) क्रम, सिलसिला ।
 तरन—(हि. पुं.) देखें 'तरण'; -तार—(पुं.) निस्तार, मुक्ति, मोक्ष; -तारन—(पुं.) वह जो भवसागर से पार करे, मोक्ष, निस्तार, उद्धार ।
 तरना—(हि. क्रि. अ., स.) पार करना, मुक्त होना, उद्धार होना, देखें 'तलना' ।
 तरनाग—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।
 तरनाल—(हि. पुं.) पाल में बाँधने का रस्सा ।
 तरनी—(हि. स्त्री.) नौका, नाव, मिठाई का थाल या खोमचा रखन का छोटा मोढ़ा, तन्नी ।
 तरण्य—(सं. पुं.) नदी की उतराई, नदी पार करने का शुल्क ।
 तरपर—(हि. वि.) नीचे-ऊपर, क्रमानु-गत, एक के पीछे दूसरा ।
 तरपरिया—(हि. वि.) नीचे-ऊपर या आगे-पीछे का ।
 तरपीला—(हि. वि.) चमकदार ।
 तरपू—(हि. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी वृक्ष ।
 तरफ—(अ. स्त्री.) ओर, दिगा, पार्श्व, पक्ष ।
 तरफदार—(अ. वि.) पक्षपाती, सहायक ।

तरफदारी—(अ. स्त्री.) पक्षपात, सहायता ।
 तरफराना—(हि. क्रि. अ.) देख 'तड़फड़ाना' ।
 तरब—(हि. पुं.) सारंगी के तार जो ताँत के नीचे लगे रहते हैं ।
 तरबहना—(हि. पुं.) देवी-देवता की मूर्ति को स्नान कराने का पात्र ।
 तरबूज—(फा. पुं.) एक प्रकार की वाल में होनेवाली बेल और उसके बड़े-बड़े गोल फल जो खाये जाते हैं ।
 तरबूजिया—(हि. वि.) तरबूज के छिलके के रंग का, गहरा हरा ।
 तरमीम—(अ. स्त्री.) संशोधन, सुधार, रद्दोवदल ।
 तरबोना—(हि. क्रि. स.) भिगाना, तर करना ।
 तरभर—(हि. स्त्री.) तड़तड़ का शब्द ।
 तरराना—(हि. क्रि. अ., स.) ऐँटना ।
 तरल—(सं. पुं.) हार, तल, पेंदी, मधु-मक्खी, लोहा, घोड़ा; (वि.) चंचल, हिलता हुआ, चपल, विस्तीर्ण; फैला हुआ, चमकीला, क्षणभंगुर, अनित्य, बहनेवाला, द्रव; -ता—(स्त्री.) द्रवत्व, चपलता, चंचलता; -नयन—(पुं.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चार नगण होते हैं; -नयनी—(स्त्री.) चंच-लाक्षि, एक प्रकार का छन्द; -भाष—(पुं.) चंचलता, चपलता, पतलापन; -लोचन—(वि.) चंचलनेत्रवाला; (पुं.) चंचल या चपल आँख; -लोचना—(स्त्री.) वह स्त्री जिसकी आँखें चंचल हों ।
 तरला—(सं. स्त्री.) मदिरा, मधुमक्खी ।
 तरलाई—(हि. स्त्री.) द्रवत्व, चंचलता, चपलता ।
 तरलित—(सं. वि.) कांपता हुआ, शर-थराता हुआ ।
 तरवन—(हि. पुं.) कान में पहिनने का एक प्रकार का गहना, तरकी, कर्णफूल ।
 तरवर—(हि. पुं.) तखर, बड़ा वृक्ष ।
 तरवरिया—(हि. पुं.) खड्ग चलानेवाला ।
 तरवा—(हि. पुं.) देखें 'तलवा' ।
 तरवार—(हि. स्त्री.) तलवार, खड्ग ।
 तरवारि—(सं. स्त्री.) तलवार, खड्ग ।
 तरस—(हि. पुं.) दया, करुणा; (मुहा.) -खाना—दया करना, करुणा दिखलाना ।
 तरसना—(हि. क्रि. अ.) किसी पदार्थ के अभाव का दुःख सहना ।
 तरसान—(सं. पुं.) नौका, नाव ।
 तरसाना—(हि. क्रि. स.) अभाव का क्लेश देना, योही या व्यर्थ किसी को ललचाना ।
 तरस्वत्—(सं. वि.) शूरवीर, बहादुर, वेगयुक्त ।
 तरस्वी—(सं. वि.) शूरवीर; (पुं.)

वरुण, वायु, गरुड़, शिव ।
 तरह—(अ. स्त्री.) प्रकार, भाँति, किस्म, वनावट; (मुहा.)—देना—ख्याल न करना, उपेक्षा करना ।
 तरहटी—(हि. स्त्री.) पहाड़ की तराई, नीची भूमि ।
 तरहदार—(फा.वि.) अच्छे ढंग या तर्ज का ।
 तरहदारी—(फा. स्त्री.) सजीलापन ।
 तरहर—(हि. अव्य.) नीचे की ओर; (वि.) नीचे का, निःकृष्ट, अधम, बुरा ।
 तरह्रा—(हि. पुं.) एक हाथ की नाप जो कुर्आ खोदने में प्रयुक्त होती है, एक प्रकार का वस्त्र ।
 तरहारि—(हि. अव्य.) नीचे ।
 तरहेल—(हि. वि.) अधीन, पराजित, जीता हुआ ।
 तराई—(हि. स्त्री.) पहाड़ के आसपास की निम्नभूमि जहाँ तरी रहती है, पहाड़ की घाटी, मूँज का मुट्ठा जो छाजन में खपरूँ के नीचे लगाया जाता है ।
 तराजू—(फा. पुं.) सामान तौलने का एक उपकरण जिसमें डाँड़ी के दोनों सिरों से दो पलड़े लटके हुए होते हैं, काँटा ।
 तराप—(हि. स्त्री.) तोप, बन्दूक आदि का तड़ाके का शब्द ।
 तरापा—(हि. पुं.) त्राहि त्राहि, कुहराम, हाहाकार ।
 तराबोर—(हि. वि.) भीगा हुआ, तर ।
 तराभर—(हि. स्त्री.) तड़ातड़ शब्द ।
 तरामल—(हि. पुं.) जुए की लकड़ी ।
 तरामीरा—(हि. पुं.) सरसों की तरह का एक पौधा जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है ।
 तरायल—(हि. वि.) नीचे का, निम्नस्थ ।
 तरायला—(हि. वि.) चपल, तीव्र ।
 तरारा—(हि. पुं.) उछाल, छल्लाँग, किसी वस्तु पर निरन्तर गिरनेवाली जल की धारा ।
 तरालु—(सं. पुं.) एक प्रकार की नाव ।
 तराबट—(फा. स्त्री.) गीलापन, नमी, शीतलता, ठंडक, ठंडक पहुँचानेवाला मोजन ।
 तराश—(फा. स्त्री.) काटने का भाव, काट, काट-छाँट ।
 तराशना—(फा.क्रि.सं.) काटना, कतरना ।
 तरालना—(हि.क्रि.सं.) त्रास या भय दिखाना ।
 तरि—(सं. स्त्री.) नौका, नाव, कपड़े का किनारा ।
 तरिक—(सं. पुं.) मल्लाह, केवट, माँझी ।
 तरिको—(हि. पुं.) कान में पहिने का एक

गहना, तरकी; (स्त्री.) विद्युत्, विजली ।
 तरिणी—(सं. स्त्री.) नौका, नाव ।
 तरित—(सं.वि.) उत्तीर्ण, पार किया हुआ ।
 तरिता—(सं. स्त्री.) कानी अँगुली, गाँजा, लहसुन ।
 तरियाना—(हि.क्रि.अ.सं.) तह में बैठाना, छिपाना, पेंदी या तल में बैठाना ।
 तरिवन—(हि. पुं.) स्त्रियों का कान में पहिने का एक प्रकार का गहना, तरकी, करनफूल ।
 तरिवर—(हि. पुं.) देखें 'तरवर', श्रेष्ठ वृक्ष ।
 तरिहंत—(हि. अव्य.) तल में, नीचे ।
 तरी—(सं. स्त्री.) नौका, नाव, गदा, धुआँ, छोटी नाव; (हि. स्त्री.) कछार, कपड़े का किनारा, गीलापन, तराबट, नमी, शीतलता ।
 तरीका—(अ. पुं.) रीति, उपाय, ढंग ।
 तरीष—(सं. पुं.) सूखा गोबर, नौका, नाव, समुद्र, स्वर्ग, पानी में चलनेवाला वड़ा, सामर्थ्य ।
 तरीषी—(सं. स्त्री.) इन्द्र की कन्या का नाम ।
 तरु—(सं. पुं.) वृक्ष, पादप, पेड़, एक प्रकार का चीड़ का पेड़ ।
 तरुखंड—(सं. पुं.) वृक्षों का समूह ।
 तरुज—(सं. वि.) वृक्ष से उत्पन्न; (पुं.) सफेद कन्या ।
 तरुजीवन—(सं. पुं.) वृक्ष का मूल, पेड़ की जड़ ।
 तरुण—(सं. पुं.) मोतिया का फल, बड़ा जीरा, रेंड का पेड़, युवा पुरुष; (वि.) युवा, जवान, नूतन, नया ।
 तरुणक—(सं. पुं.) सद्यःजात अंकुर ।
 तरुणज्वर—(सं. पुं.) वह ज्वर जो सात दिन का हो गया हो ।
 तरुण-तरणि—(सं. पुं.) तरुण सूर्य, दोपहर का सूर्य ।
 तरुणदाह—(सं. पुं.) विवारा की लता ।
 तरुणपीतिका—(सं. स्त्री.) मनःशिल, मैनसिल ।
 तरुणसूर्य—(सं. पुं.) दोपहर का सूर्य ।
 तरुणाई—(हि. स्त्री.) युवावस्था, जवानी ।
 तरुणाना—(हि. क्रि. अ.) युवावस्था को प्राप्त करना ।
 तरुणास्थि—(सं. स्त्री.) पतली लचीली हड्डी ।
 तरुणी—(सं. स्त्री.) युवती, जिसकी अवस्था सोलह से बत्तीस वर्ष तक की हो, घृतकुमारी, जमालगोटा, एक प्रकार का

बड़ा काला जीरा, मेघराग की एवः रागिनी ।
 तरुतुलिका—(सं. स्त्री.) चमगादड़ ।
 तरुत्र—(सं. वि.) तारक, तारनेवाला ।
 तरुनख—(सं. पुं.) वृक्ष का काँटा ।
 तरुन—(हि. वि., पुं.) देखें 'तरुण' ।
 तरुनई, तरुनाई—(हि. स्त्री.) युवावस्था, जवानी ।
 तरुनापा—(हि. पुं.) युवावस्था, जवानी ।
 तरुपंक्ति—(सं. स्त्री.) वृक्षों की पंक्ति ।
 तरुपतिका—(हि. स्त्री.) लता ।
 तरुवाँही—(हि. स्त्री.) वृक्ष की शाखा या डाल ।
 तरुभुज—(सं. पुं.) वृक्ष पर उगनेवाला परगाछा, बंदक ।
 तरुमूल—(सं. पुं.) वृक्ष-मूल, पेड़ की जड़ ।
 तरुपुग—(सं. पुं.) शाखाभृग, वन्दर ।
 तरुराग—(सं. पुं.) किसलय, कोमल नया पत्ता ।
 तरुराज—(सं. पुं.) ताल-वृक्ष, कल्प-वृक्ष ।
 तरुहा, तरुरोहिणी—(सं. पुं., स्त्री.) देखें 'तरुमुजू' ।
 तरुवल्ली—(सं. स्त्री.) जतुका लता, पानड़ी ।
 तरुविलासिनी—(सं. स्त्री.) नवमल्लिका, चमेली ।
 तरुश—(सं. वि.) वृक्षों से घिरा हुआ ।
 तरुशायी—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया ।
 तरुसार—(सं. पुं.) कपूर, गोंद ।
 तरुस्थ—(सं. वि.) वृक्ष पर टिका हुआ ।
 तरुंदा—(सं. पुं.) जल के तल पर तैराता हुआ काठ, वेड़ा, पानी पर तैरनेवाली वस्तु ।
 तरुं—(हि. अव्य.) नीचे की ओर, नीचे ।
 तरुंटी—(हि. स्त्री.) तराई, घाटी ।
 तरुंरना—(हि. क्रि. सं.) क्रुद्ध दृष्टि से देखना, आँख के संकेत से असन्तोष प्रकट करना ।
 तरुंनी—(हि. स्त्री.) हल में हरिस लगाने का पच्चड़ ।
 तरुया—(सं. स्त्री.) नक्षत्र, तारा ।
 तरुंल—(हि. पुं.) किसी स्त्री का वह पुत्र जो उसके पूर्व पति से उत्पन्न हो ।
 तरुंली—(हि. स्त्री.) देखें 'तरुंनी' ।
 तरुंच—(हि. स्त्री.) कंधी के दाँतों के नीचे का भाग ।
 तरुंंडा—(हि. पुं.) हलवाहे आदि को देने के लिये निकाला हुआ अन्न ।
 तरुंई—(हि. स्त्री.) देखें 'तरुई', एक तरकारी ।
 तरुंवर—(हि. पुं.) देखें 'तरुवर', श्रेष्ठ वृक्ष ।
 तरुंछ—(हि. स्त्री.) तलछट ।
 तरुंछी—(हि. स्त्री.) वह लकड़ी जो बेल-गाड़ी में नीचे लगी होती है ।

तर्राटा—(हि.पुं.) चक्की का निचला चाक ।
 तर्राता—(हि.पुं.) छाजन के नीचे लगाने की लकड़ी ।
 तर्रास—(हि.पुं.) तट, किनारा ।
 तर्राता—(हि.पुं.) स्त्रियों की कान में पहिने की तरकी, कर्णफूल, मिठाई का खोन्चा रखने का मोढा ।
 तर्क—(सं.पुं.) किसी विषय के अज्ञात तत्त्व को निश्चित करने की युक्ति या सिद्धांत, आगम-प्रमाण, इच्छा, विचार, दलील, भीमांसा शास्त्र, न्यायशास्त्र, व्यंग्य, ताना; -क—(वि.) याचक, माँगनेवाला, तर्क करनेवाला; -काग—(वि.) तर्क करनेवाला; -ण—(पुं.) चिन्तन, तर्क करने की क्रिया; -णा—(स्त्री.) विचार, युक्ति, उपाय; -णीय—(वि.) चिन्तनीय, तर्क करने योग्य; -नागीश—(पुं.) वह जो तर्क-शास्त्र को मली भाति जानता हो; -वितर्क—(पुं.) विवेचना, सोच-विचार, वादविवाद; -विद्या—(स्त्री.) न्यायशास्त्र, तर्क शास्त्र; -शास्त्र—(पुं.) वह शास्त्र जिसमें ठीक तरह से तर्क करने के नियम आदि निरूपित होते हैं, न्यायशास्त्र ।
 तर्कना—(हि.क्रि.अ.) तर्क करना ।
 तर्कश—(हि.पुं.) देखें 'तरकश' ।
 तर्कसी—(हि.स्त्री.) देखें 'तरकसी' ।
 तर्कभास—(सं.पुं.) कुतर्क, ऐसा तर्क जो ठीक न हो ।
 तर्कण—(सं.पुं.) चकवँड़ का पौधा
 तर्कित—(सं.वि.) आलोचित, संभावित, विचारा हुआ, अनुमान किया हुआ ।
 तर्की—(सं.वि.) तर्क करनेवाला ।
 तर्कीव—(हि.स्त्री.) देखें 'तरकीव' ।
 तर्कु—(सं.स्त्री.) तकला, टकुआ ।
 तर्कुट—(सं.पुं.) कर्तन, कातना ।
 तर्कुटी—(सं.स्त्री.) तकला, टकुआ ।
 तर्कुल—(हि.पुं.) ताड़ का वृक्ष ।
 तर्क्य—(सं.वि.) विचार्य, जिस विषय पर कुछ सोच-विचार करना आवश्यक हो ।
 तर्क्ष—(सं.पुं.) तेंदुआ, चीता वाघ ।
 तर्क्ष्य—(सं.पुं.) यवहार, जवाहार ।
 तर्ज—(अ.पुं.) रीति, शली, प्रकार, ढंग ।
 तर्जन—(सं.पुं.) तिरस्कार, फटकार, घृणा करने का भाव, धमकाने का काम, ताड़ना क्रोध-प्रदर्शन, डाँट-डपट ।
 तर्जना—(हि.क्रि.स.) डाँटना-डपटना, धमकाना ।
 तर्जनी—(सं.स्त्री.) अँगूठे के पास की हाथ की अंगुली ।

तर्जित—(सं.वि.) अनादृत, अपमानित किया हुआ ।
 तर्ण—(सं.पुं.) एक प्रकार का धान, बछवा ।
 तर्णक—(सं.पुं.) तुरत का जनमा हुआ गाय का बछवा, शिशु, बच्चा ।
 तर्ण—(सं.पुं.) सूर्य, प्लव, बड़ा ।
 तर्तरीक—(सं.पुं.) नौका, नाव; (वि.) पार जानेवाला ।
 तर्दम—(सं.पुं.) छेद, सुराख ।
 तर्पण—(सं.पुं.) तृप्त करने की क्रिया, देवता, पितर आदि को सन्तुष्ट करने के लिये अंजलि में पानी भरकर जलदान देने की क्रिया ।
 तर्पणी—(सं.स्त्री.) खिरनी का वृक्ष, गंगा; (वि.स्त्री.) तृप्ति देनेवाली ।
 तर्पणीय—(सं.वि.) तर्पण करने योग्य, तृप्ति के योग्य ।
 तर्पणी—(सं.स्त्री.) भूमि-कमलिनी ।
 तर्पिल—(सं.वि.) सन्तुष्ट किया हुआ ।
 तर्पितव्य—(सं.वि.) तृप्ति के योग्य ।
 तर्पी—(सं.वि.) तर्पण करनेवाला, सन्तुष्ट करनेवाला ।
 तर्बट—(सं.पुं.) वर्ष, चकवँड़ का पौधा ।
 तर्बज—(हि.पुं.) देखें 'तरबज' ।
 तर्रा—(हि.पुं.) चाबुक में लगी हुई डोरी ।
 तर्राता—(हि.पुं.) एक प्रकार का गाना ।
 तर्रा—(हि.स्त्री.) एक प्रकार की घास ।
 तर्ष—(सं.पुं.) समुद्र, सूर्य, अभिलाषा, चाह ।
 तर्षण—(सं.पुं.) प्य स अभिलाषा, इच्छा ।
 तर्षित—(सं.वि.) अभिलषित, चाहा हुआ, प्यासा ।
 तर्हि—(सं.अव्य.) उस समय, तब ।
 तल—(सं.पुं.) नीचे का भाग, अधोभाग, पेंदी, निम्नता, जंगल, गड्ढा, घर की छत, थप्पड़, तमाचा, ताड़ का वृक्ष, पाताल, पृष्ठ-देश, मूल भाग, हथेली, पैर का तलवा, तलवार की मूठ, धरातल, सतह, एक नरक का नाम, सहारा, आधार, जल के नीचे की भूमि, वक्षःस्थल, छाती, वित्ता, महादेव, सात पातालों में से पहिला पाताल ।
 तलक—(सं.पुं.) ताल, पोखरा; (हि.अव्य.) पर्यन्त, तक ।
 तलकर—(हि.पुं.) वह कर या लगान जो भूस्वामी सूखे तालाब की भूमि पर लगाता है ।
 तलकीट—(हि.स्त्री.) एक प्रकार का वृक्ष ।
 तलगू—(हि.स्त्री.) तैलंग देश की भाषा ।
 तलघरा—(हि.पुं.) भूमिगृह, तहखाना ।
 तलछट—(हि.स्त्री.) किसी द्रव पदार्थ के

नीचे बँठा हुआ मैल, तलछ, गाद ।
 तलताल—(सं.पुं.) हथेली से बजाने का एक प्रकार का बाजा ।
 तलत्र, तलत्राण—(सं.पुं.) चमड़े का बना हुआ दस्ताना ।
 तलध्वनि—(सं.पुं.) हथेली बजाने का शब्द, ताली ।
 तलना—(हि.क्रि.स.) घी या तेल में छानना या पकाना ।
 तलप—(हि.पुं.) देखें 'तल्प' ।
 तलपट—(हि.वि.) नष्ट, बरबाद, चौपट ।
 तलप्रहार—(सं.पुं.) थप्पड़ तमाचा ।
 तलफना—(हि.क्रि.अ.) देखें 'तड़पना' ।
 तलब—(अ.स्त्री.) पाने की इच्छा, चाह, आवश्यकता, माँग, बुलाना, वेतन ।
 तलवनामा—(अ.पुं.) अदालत में हाजिर होने का लिखित आज्ञा-पत्र ।
 तलवाना—(फा.पुं.) अदालत में गवाहों के हाजिर होने के लिए जमा किया जानेवाला खर्च ।
 तलवी—(फा.स्त्री.) बुलावा, माँग, आवश्यकता ।
 तलबेली—(हि.स्त्री.) उत्कण्ठा, आतुरता, छटपटी, बेचैनी ।
 तलमलाना—(हि.क्रि.अ.) छटपटाना ।
 तलमलाहट—(हि.स्त्री.) व्याकुलता, बेचैनी ।
 तललोक—(सं.पुं.) पाताल ।
 तलवकार—(सं.पुं.) सामवेद की एक शाखा, एक उपनिषद् का नाम ।
 तलवा—(हि.पुं.) पादतल, पैर के नीचे का भाग; (मुहा.) तलवे चाटना—चापलूसी करना; तलवे छलनी होना—चलते चलते पैर थक जाना या शिथिल होना; तलवों से आग लगना—बहुत शोध चढ़ना ।
 तलवार—(हि.स्त्री.) करवाल, असि, खड्ग, कृपाण; (मुहा.) -का खेत-रणभूमि; -का घाट—खड्ग का वह भाग जहाँ से इसकी वक्रता या टेढ़ापन आरंभ होता है; -का पानी—तलवार की चमक; -की छाँह में—रणक्षत्र में; -खींचना—युद्ध करने के लिये तलवार को म्यान से बाहर निकालना ।
 तलवारण—(सं.पुं.) तलवार, खड्ग ।
 तलसारक—(सं.पुं.) घोड़े की छाती में बँधी हुई रस्सी, तोवड़ा ।
 तलस्थित—(सं.वि.) निम्नस्थित, नीचे रहनेवाला ।
 तलहट्टी—(हि.स्त्री.) पहाड़ की तराई, घाटी ।
 तला—(सं.स्त्री.) चमड़े का दस्ताना जो

घनूष की डोरी की रगड़ से बचाने के लिये बाई बाँह म पहिना जाता है; (हिं. पुं.) किसी वस्तु के नीचे का तल, पेंदी, जूते के तलवे का चमड़ा।
 तलाई—(हिं. स्त्री.) छोटा ताल, तलैया।
 तलाक—(अ. पुं.) वैधानिक रीति से विवाह-संबंध का विच्छेद।
 तलाची—(सं. स्त्री.) बेंत या बाँस की फट्टियों की बनी हुई चटाई।
 तलातल—(सं. पुं.) सात पातालों में से एक पाताल का नाम।
 तलाब—(हिं. पुं.) देखें 'तालाब', ताल।
 तलाश—(तु. स्त्री.) खोज, चाह, अन्वेषण।
 तलाशना—(हिं. क्रि. स.) खोजना, ढूँढना।
 तलाशी—(फा. स्त्री.) खोज, जाँच-पड़ताल।
 तलिका—(सं. स्त्री.) धोड़ की छाती में बँधी हुई रस्सी, तोवड़ा, तंग।
 तलित्—(सं. स्त्री.) देखें 'तडित्', विजली।
 तलित—(सं. पुं.) तला हुआ मांस।
 तलिन—(सं. पुं.) शय्या, पलंग; (वि.) थोड़ा, कम, बुद्ध, दुर्बल, दुबला-पतला।
 तलिम—(सं. पुं.) शय्या, खड्ग, चँदवा।
 तलिया—(हिं. स्त्री.) समुद्र का थाह।
 तली—(हिं. स्त्री.) तल, पेंदी, तलछट, तलौछ।
 तलुन—(सं. पुं.) वायु, हवा, युवा मनुष्य।
 तलुनी—(सं. स्त्री.) युवती स्त्री।
 तले—(हिं. अव्य.) नीचे, नीचे की ओर।
 तलेक्षण—(सं. पुं.) बूकर, सूअर।
 तलेटी—(हिं. स्त्री.) पेंदी, तलहटी, तराई, तघाटी।
 तलैया—(हिं. स्त्री.) छोटा ताल।
 तलोदरी—(सं. स्त्री.) भार्या, पत्नी।
 तलोदा—(सं. स्त्री.) नदी, दरिया।
 तलौछ—(हिं. स्त्री.) तरल पदार्थ के नीचे जमा हुआ मैल, तलछट।
 तल्क—(सं. पुं.) वन, जंगल।
 तल्प—(सं. पुं.) पलंग, शय्या, अटारी, स्त्री।
 तल्पक—(सं. पुं.) पलंग विछानेवाला मृत्यु या नौकर।
 तल्पकीट—(सं. पुं.) मत्कुण, खटमल।
 तल्पज—(सं. पुं.) क्षेत्रज पुत्र।
 तल्पन—(सं. पुं.) पीठ की हड्डी पर का मांस।
 तल्पशीवन्—(सं. वि.) सर्वदा पलंग पर पड़ा रहनेवाला।
 तल्ल—(सं. पुं.) विल, गड्ढा, पोखरी; (वि.) उसमें लगा हुआ।
 तल्लज—(सं. पुं.) सम्मानसूचक शब्द।
 तल्ला—(हिं. पुं.) अस्तर, जूते की पेंदी का चमड़ा, मकान की मंजिल, पास।

तल्लिका—(सं. स्त्री.) कुंजी, ताली।
 तल्ली—(सं. स्त्री.) नौका, नाव, युवती, वरण की स्त्री; (वि.) तल्लिन, निमग्न।
 तल्लीन—(सं. वि.) ध्यान, विचार आदि में लीन, निमग्न।
 तल्व—(सं. पुं.) वह सुगन्ध जो किसी पदार्थ की रगड़ से उत्पन्न हो।
 तल्वकार—(सं. पुं.) सामवेद की एक शाखा।
 तव—(सं. सर्व.) तुम्हारा।
 तवक्का—(हिं. पुं.) भरोसा।
 तवक्षीर—(सं. पुं.) तवाखीर, तीखुर, वंश-लोचन।
 तवना—(हिं. क्रि. अ.) तपना, गरम होना, ताप से पीड़ित होना, क्रोध से लाल होना, कुढ़ना।
 तवनी—(हिं. स्त्री.) छोटा तवा।
 तवर्ग—(सं. पुं.) त, थ, द ध, न-ये पाँच अक्षर।
 तवर्गीय—(सं. वि.) तवर्ग संबंधी।
 तवा—(हिं. पुं.) रोटी सेंकने का छिछला लोहे का गोल पात्र, खपड़े का गोल ठीकरा जिसको चिलम पर रखकर तंवाकू पीया जाता है, एक प्रकार की लाल मिट्टी; (मुहा.) तवे की बूंद-केवल क्षणभर ठहरनेवाला, जो चिर-स्थायी न हो।
 तवाखीर—(हिं. पुं.) वंशलोचन।
 तवाना—(हिं. क्रि. स.) गरम कराना।
 तवायफ—(अ. स्त्री.) बेरथा, रंडी।
 तवारीख—(अ. स्त्री.) इतिहास।
 तवालत—(अ. स्त्री.) बखेड़ा, झंझट, तकलीफ।
 तविष—(सं. पुं.) स्वर्ग, समुद्र, शक्ति, सोना; (वि.) बलवान्, बुड्ढा, बड़ा।
 तविषी—(सं. स्त्री.) देवकन्या, भूमि, नदी।
 तविषीवत्—(सं. वि.) साहसी, पराक्रमी।
 तशरीफ—(अ. स्त्री.) इज्जत, आदर, सम्मान।
 तश्त—(फा. पुं.) तबिये की छोटी थाली जिसमें मूर्तियाँ नहलाई जाती हैं।
 तश्तरी—(फा. स्त्री.) छोटी थाली या रकाबी।
 तष्ट—(सं. वि.) दो टुकड़े किया हुआ, छीला हुआ, पीटा हुआ, गुणा किया हुआ।
 तष्टा—(सं. पुं.) एक आदित्य का नाम, विश्वकर्मा, छील-छीलकर गढ़नेवाला।
 तस—(हिं. वि., अव्य.) तैसा, वैसा।
 तसगर—(हिं. पुं.) जुलाहे की ताने में लगाने की लकड़ी।
 तसदीक—(अ. स्त्री.) सचाई या सही होने का साक्ष्य या प्रमाण, समर्थन, सादय, गवाही।

तसमा—(फा. पुं.) चमड़े या सूत की चौड़ी पट्टी या पेटी।
 तसर—(सं. पुं.) जुलाहे की ढरकी, एक प्रकार का कीड़ा, मोटा रेशम।
 तसल—(हिं. पुं.) कटोरे के आकार का बड़ा पात्र।
 तसली—(हिं. स्त्री.) छोटा तसला।
 तसलीम—(अ. स्त्री.) अभिवादन, स्वीकृति।
 तसल्ली—(अ. स्त्री.) ढाढ़स, दिलासा।
 तसवीर—(अ. स्त्री.) चित्र।
 तसू—(हिं. पुं.) इमारती गज का चौबी-सवाँ अंश जो प्रायः सवा इंच के बराबर होता है।
 तस्कर—(सं. पुं.) चोर, चोट्टा, एक प्रकार का शाक, श्रवणेंद्रिय, कान, चोर नामक गन्ध द्रव्य।
 तस्करता—(सं. स्त्री.) चोर का काम, चोरी।
 तस्करस्नायु—(सं. पुं.) कौवाठोठी।
 तस्कारी—(सं. स्त्री.) चोर की स्त्री, चोरी करनेवाली स्त्री, चोरी का काम, कौवा-ठोठी।
 तस्थिवन्—(सं. वि.) स्थित, ठहरा हुआ।
 तस्थु—(सं. वि.) एक स्थान पर रहनेवाला।
 तस्मा—(हिं. पुं.) देखें 'तसमा'।
 तस्मात्—(सं. अव्य.) इस कारण से, इसलिये।
 तहँ, तहँवाँ—(हिं. अव्य.) उस स्थान पर।
 तह—(हिं. स्त्री.) परत, तल, पेंदी, थाह, झिल्ली, महीन पटल; (मुहा.)—करना या लगाना—किसी वस्त्र को चौपतकर या मोड़कर समेटना;—की बात—रहस्य, गुप्त वार्ता;—तक पहुँचना—रहस्य का पता लगा लेना;—तोड़ना—झगड़ा तय करना;—देना—हलका रंग चढ़ाना।
 तहकीफात—(अ. स्त्री.) न्यायिक या विधिक जाँच-पड़ताल।
 तहखाना—(फा. पुं.) जमीन के नीचे बना हुआ कमरा या घर, भुइँघरा।
 तहवंद—(फा. पुं.) लुंगी।
 तहरीर—(अ. स्त्री.) लिखावट, लिखित प्रमाण, लिखने का पारिश्रमिक।
 तहरीरी—(अ. वि.) लिखा हुआ, लिपिवद्ध।
 तहलका—(अ. पुं.) खलवली, हलचल।
 तहस-तहस—(हिं. वि.) नष्ट-भ्रष्ट।
 तहसील—(अ. स्त्री.) रूप की बमूली, उगाही, तहसीलदार का कार्यालय, जिले का प्रशासनिक उपखंड।
 तहसीलदार—(फा. पुं.) तहसील का प्रशासनिक तथा मालगुजारी बमूल करनेवाला अविकारी।

तहसीलदारी—(फा. स्त्री.) तहसीलदार का पद या काम ।
 तहसीलना—(हि.क्रि.स.) चन्दा, लगान, आदि उगाहना ।
 तहाँ—(हि. अव्य.) वहाँ, उस स्थान पर ।
 तहाना—(हि.क्रि.स.) लपेटना, तह करना ।
 तहिया—(हि. अव्य.) उस समय, तब ।
 तहियाना—(हि.क्रि.स.) तह लगाना, तहाना ।
 तांगा—(हि.पुं.) देख 'टांगा' ।
 तांडव—(सं.पुं.) शिव का प्रसिद्ध नृत्य ।
 तांत—(हि. स्त्री.) चमड़े या पशुओं की नसों से बनी हुई डोरी, घनुष की डोरी, सूत, सारंगी का तार, जुलाहों का राछ (उपकरण विशेष) ।
 तांतड़ी—(हि. स्त्री.) तांत, तन्तु ।
 तांतव—(सं. वि.) तंतुओं से बना हुआ ।
 तांतवा—(हि.पुं.) आंत उतरने का रोग ।
 तांता—(हि.पुं.) पंक्ति; (मुहा.)—लगना—एक के बाद दूसरे का चला चलना ।
 तांतिया—(हि. वि.) जो तांत की तरह पतला हो ।
 तांती—(हि. स्त्री.) पंक्ति, क्रम, बाल-वच्चे; (पुं.) जुलाहा ।
 तांत्रिक—(सं. वि.) तंत्र संबंधी; (पुं.) तंत्र-शास्त्र का ज्ञाता ।
 तांबा—(हि.पुं.) तामा, लाल रंग की एक मूलायम धातु जो पीटने से बढ़ सकती है ।
 तांबिया, तांबी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छोटा पात्र जिसका मुंह चौड़ा होता है, तांबे की करछी ।
 तांबूल—(सं.पुं.) पान, सुपारी; —पत्र—(पुं.) पान का पत्ता; —राग—(पुं.) पान की होंठों पर पड़ी लाली ।
 तांबरी—(हि. स्त्री.) ताप, जूड़ी, मूर्छा ।
 तांसना—(हि.क्रि.स.) डाँटना, डपटना, घमकाना, कष्ट देना, सताना, दुःखी करना ।
 ता—(सं.प्रत्य.) एक भाववाचक प्रत्यय ।
 ताई—(हि.अव्य.) ताँई, तक, पर्यंत, पास, समीप, निकट, लिए, वास्ते; (हि. स्त्री.) जेठी चाची, छिछली कड़ाही ।
 ताईद—(अ. स्त्री.) अनुमोदन, समर्थन ।
 ताऊ—(हि.पुं.) बाप का बड़ा भाई, जेठा चाचा ।
 ताऊन—(अ.पुं.) प्लेग नामक घातक और संक्रामक रोग ।
 ताऊस—(अ.पुं.) मोर, मयूर ।
 ताक—(हि. स्त्री.) अवलोकन, देखने की क्रिया, खोज, स्थिर दृष्टि, टकटकी, किसी अवसर की प्रतीक्षा, घात; (मुहा.)—में रहना—अवसर देखते रहना;

—लगाना—घात में रहना, अवसर की प्रतीक्षा करते रहना ।
 ताक—(अ.पुं.) दीवाल में बना हुआ ताखा, आला; (मुहा.)—पर धरना या रखना—पड़ा रहने देना, उपयोग में न लाना ।
 ताकझाँक—(हि.स्त्री.) रह-रहकर वारं-वार देखने की क्रिया, निरीक्षण, देखमाल, छिपकर देखने की क्रिया, अन्वेषण, खोज ।
 ताकत—(अ. स्त्री.) बल, शक्ति ।
 ताकतवर—(अ.वि.) बलवान्, शक्तिशाली ।
 ताकना—(हि.क्रि.स.) देखना, अवलोकन करना, स्थिर दृष्टि से देखना, टकटकी लगाना, लखना, समझ जाना, सोचना, विचारना, चाहना ।
 ताकि—(फा.अव्य.) इसलिए कि, जिससे ।
 ताकीद—(अ. स्त्री.) खूब चेताकर कहा हुआ अनुरोध, चेतावनी ।
 ताख—(हि.पुं.) ताक, ताखा ।
 ताखा—(हि.पुं.) सामप्रियाँ रखने के लिए दीवार में बना हुआ स्थान, आला ।
 ताग—(हि.पुं.) देखें 'तागा'; (मुहा.)—डालना—वर के बड़े भाई का बघू को ताग-पाट पहनाना ।
 तागड़ी—(हि. स्त्री.) कमर में पहिने का गहना, कटिसूत्र, करघनी, कमर में पहिने का रंगीन डोरा ।
 तागना—(हि.क्रि.स.) सिलाई करना, दूर दूर की सिलाई करना, लंगर डालना ।
 तागपाट—(हि.पुं.) रेशम के तागे में पिरोया हुआ एक गहना जो विवाह में बघू को पहिनाया जाता है ।
 तागा—(हि.पुं.) सूत, डोरा, घागा, वह कर जो प्रति मनुष्यके हिसाब से लगाया जाता है ।
 ताज—(अ.पुं.) बादशाह का मुकुट, कलगी, शिखा, ताजमहल का संक्षिप्त नाम ।
 ताजगी—(फा. स्त्री.) ताजा होने का भाव, ताजापन, शारीरिक या मानसिक स्फूर्ति, नयापन ।
 ताजदार—(फा.पुं.) बादशाह, राजा ।
 ताजपोशी—(फा.स्त्री.) सिंहासन पर बैठने और राजमुकुट धारण करने का उत्सव ।
 ताजमहल—(अ.पुं.) बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाया हुआ अपनी पटरानी मुमताजमहल की कब्र पर संगमरमर का मकबरा ।
 ताजा—(फा. वि.) हरा-भरा, हाल का पकाया हुआ (अन्न), अभी-अभी तोड़े गये (फल), जो बहुत दिनों का न हो (समाचार), नया ।

ताजिया—(अ.पुं.) मकबरे के स्वरूप की बनी प्रतिमा जो मुसलमान लोग मुहर्रम के दिन इमाम हुसन और इमाम हुसेन की स्मृति में जुलूस के साथ निकालते और दफनाते हैं ।
 ताजीर—(अ. स्त्री.) दंड, सजा ।
 ताजीरात—(अ. स्त्री.) 'ताजीर' का बहु-वचन रूप ।
 ताजीरात-हिंद—(अ. स्त्री.) भारतीय दंड-विधान ।
 ताजीरी—(अ. वि.) ताजीर संबंधी ।
 ताज्जुब—(हि.पुं.) आश्चर्य, अचंभा ।
 ताटंक—(सं.पुं.) कान में पहिने का एक प्रकार का गहना, तरकी, करनफूल, छप्पय छन्द का एक भेद ।
 ताटस्थ—(सं.पुं.) निकट में होने का भाव, समीपता, उदासीनता, तटस्थता ।
 ताडंक—(सं.पुं.) कान का एक गहना, तरकी ।
 ताड़—(सं.पुं.) ताड़न, प्रहार, आघात, चोट, गुणन, ध्वनि का शब्द, घास आदि का जुट्टा, पर्वत, पहाड़, हाथ का एक आभूषण, श खारहित एक बड़ा वृक्ष, ताल वृक्ष ।
 ताड़क—(सं. वि.) प्रहार करनेवाला, ताड़न करनेवाला ।
 ताड़का—(सं. स्त्री.) एक राक्षसी जिसको रामचन्द्र ने मारा था; —फल—(पुं.) बड़ी इलायची ।
 ताड़कायन—(सं.पुं.) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम ।
 ताड़कारि—(सं.पुं.) ताड़का के शत्रु श्रीरामचन्द्र ।
 ताड़केय—(सं.पुं.) ताड़का का पुत्र, मारीच ।
 ताड़न—(सं.पुं.) आघात, प्रहार, मांग, शासन, दण्ड, डाँट-डपट, घुड़की ।
 ताड़ना—(सं. स्त्री.) ताड़न, मार, प्रहार, कष्ट; (हि.क्रि.स.) डाँटना, डपटना, दण्ड देना, मारना, पीटना, मारपीटकर भगाना, हटा देना, छिपी हुई बात का पता लगा लेना, भांपना, लख लेना ।
 ताड़नी—(सं. स्त्री.) कोड़ा, चाबुक ।
 ताड़नीय—(सं. वि.) ताड़न करने योग्य, दण्ड देने योग्य ।
 ताड़पत्र—(सं.पुं.) कर्णफूल, कान का एक गहना, ताड़ का पत्ता ।
 ताड़वाज—(हि. वि.) छिपी हुई बात को समझ जानेवाला, ताड़नेवाला ।
 ताड़ित—(सं. वि.) आहत, मार खाया हुआ, तिरस्कार किया हुआ, दण्डित; (पुं) विद्युत्, विजली ।

ताड़ी—(हि.स्त्री.) वह मादक रस जो ताड़ के तने से निकलता है।

ताड़्य—(सं. वि.) ताड़ने के योग्य, डाँटने-उपटने योग्य; —मान—(वि.) जो डाँटा जाता हो, जो पीटा जाता हो; (पुं.) ढक्का, ढोल।

तात—(सं. पुं.) पिता, बाप, प्यार का शब्द जो भाई-बन्धु विशेषकर अपने से छोटे के लिये व्यवहार किया जाता है, दया; (वि.) आदर के योग्य, पूज्य; (हि. वि.) गरम, उष्ण।

तातगु—(सं. पुं.) पितृव्य, चाचा।

तातन—(सं. पुं.) खंजन पक्षी।

तातल—(सं. वि.) पितातुल्य, पिता-सम्बन्धी, अति वेगवान्, तप्त, गरम।

ताता—(हि. वि.) तपा हुआ, उष्ण, गरम।

ताताथेई—(हि. स्त्री.) नाचने में पाद-विक्षेप का शब्द।

ताति—(सं. स्त्री.) उन्नति, वृद्धि।

तातील—(अ. स्त्री.) अवकाश, छुट्टी।

तात्कालिक—(सं. वि.) तत्कालीन, उस समय का।

तात्काल्य—(सं. पुं.) तात्कालिक का भाव, वह जो उसी समय का हो।

तात्पर्य—(सं. पुं.) आशय, अभिप्राय, मतलब, तत्परता।

तात्पर्यक—(सं. वि.) अर्थबोधक भाव उत्पन्न करनेवाला।

तात्त्विक—(सं. वि.) तत्त्व-ज्ञान सम्बन्धी, यथार्थ।

तात्य—(सं. वि.) तत्कालीन, उस समय का।

ताथेई—(हि. स्त्री.) देखें 'ताताथेई'।

तादाधिक—(सं. वि.) उसी अर्थ का, उसी तरह का।

तादर्थ्य—(सं. पुं.) तन्निमित्तता, तदर्थता।

तादात्म्य—(सं. पुं.) तत्स्वरूपता, एक वस्तु का दूसरे में मिलकर उसी के रूप का हो जाना।

तादाद—(अ. स्त्री.) संख्या, गिनती, अदद।

तादश—(सं. वि.) उस तरह का, उसके समान, तत्तुल्य।

तादशी—(सं. वि. स्त्री.) उसी के समान, वैसी।

ताधर्म्य—(सं. पुं.) तुल्य धर्म, समान गुण।

ताधा—(हि. स्त्री.) देखें 'ताताथेई'।

तान—(सं. पुं.) विस्तार, फैलाव, सूत्र, ज्ञान का विषय; (हि. स्त्री.) गाने का एक लय जिसमें सुर को अनेक विभाग करके खींचा जाता है, लय का विस्तार, आलाप वह पदार्थ जिसका ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा होता है, पलंग या हृदये को

पुष्ट करने के लिये लगाया हुआ लोहे का छड़, एक प्रकार का वृक्ष; (मुहा.)

—उड़ाना—गीत गाना।

तान-तरंग—(सं. स्त्री.) लय की लहर।

तानना—(हि. क्रि. स.) जोर से खींचना, बढ़ाना, कारागार में भोजना, किसी के विरुद्ध चिट्ठी-पत्री या प्रार्थना-पत्र भजना, प्रहार के लिये अस्त्र उठाना, किसी पदार्थ को एक ऊँचे स्थान से दूसरे ऊँचे स्थान तक ले जाकर बाँधना; तानकर-बल के साथ; (मुहा.)—तानकर सोना—वेफिक्र सोना।

तानपूरा—(हि. पुं.) चार तारों का सितार के आकार का एक वाजा जो गायक के सुर मिलाने में सहायक होता है, तंबूरा।

तानवान—(हि. पुं.) देखें 'तानावाना'।

तानसेन—(पुं.) अकबर के समय का एक अति प्रसिद्ध गवैया, (यह पहिले कट्टर हिन्दू थे परन्तु बाद में मुसलमान हो गये थे।)

ताना—(हि. पुं.) कपड़े की बुनावट में वह सूत जो लंबाई के बल रहता है, करघा जिसपर दरी या कालीन बुना जाता है;

(हि. क्रि. स.) तप्त करना, तपाना, गरम करना, सोना-चाँदी को गरम करके परीक्षा करना, पिघलाना, जाँचना, गीली मिट्टी से पात्र का मुँह बन्द करना, मूंदना; (अ. पुं.) व्यंग्य, चुटीली बात।

ताना-बाना—(हि. पुं.) कपड़े की बुनावट में लंबाई तथा चौड़ाई के बल फैलाये हुए सूत।

तानारीरी—(हि. स्त्री.) सामान्य गायन, मामूली गाना, राग, आलाप।

तानाशाह—(फा. पुं.) निरंकुश वादशाह या राजा, अधिनायक।

तानाशाही—(फा. स्त्री.) तानाशाह का पद या अत्याचार, अधिनायकता।

तानी—(हि. स्त्री.) कपड़े की बुनावट में वह सूत जो लंबाई के बल हो।

ताप—(सं. पुं.) जलन जो उष्ण वस्तु के स्पर्श से उत्पन्न होती है, उष्णता, आँच, लपट, ज्वर, यातना, हृदय का दुःख, मानसिक कष्ट, आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक क्लेश, वह प्राकृतिक शक्ति जिसका प्रभाव पदार्थों को पिघलाने, वाष्प बनाने आदि में देखा जाता है।

तापक—(सं. पुं.) तापकारक, ताप उत्पन्न करनेवाला, ज्वर, रजोगुण।

तापक्रम—(सं. पुं.) वायुमंडल, शरीर आदि की उष्णता का उतार-चढ़ाव।

तापचालक—(सं. पुं.) वह पदार्थ जो विजली के प्रवाह को अपने एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचाता हो।

तापचालकता—(सं. स्त्री.) तापचालक पदार्थ का स्वाभाविक गुण या धर्म।

तापतिल्ली—(हि. स्त्री.) प्लीहा रोग, प्लीहा बढ़ जाने का रोग।

तापती—(सं. स्त्री.) सूर्य की कन्या, तापती नदी जो सतपुरा पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती-हुई खंभात की खाड़ी में जा मिली है।

तापत्य—(सं. पुं.) तापती के वंशज, कुरु।

तापत्रय—(सं. पुं.) तीन प्रकार के दुःख; यथा—आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक।

तापन—(सं. पुं.) ताप देनेवाला, सूर्य, सूर्यकान्त मणि, कामदेव के पाँच वाणों में से एक, मदार का वृक्ष, ढोलक वाजा, एक नरक का नाम, तन्त्र का वह प्रयोग जिसके अभिचार से शत्रु को पीड़ा होती है।

तापना—(हि. क्रि. अ., स.) अग्नि की गरमी से अपने शरीर को गरम करना, शरीर गरम करने के लिये आग जलाना, फूंकना, नष्ट करना।

तापनीय—(सं. स्त्री.) एक उपनिषद् का नाम; (वि.) सुवर्णमय, गरम होने योग्य।

तापमान—(सं. पुं.) वायुमंडल, शरीर आदि की किसी समय की उष्णता या तापक्रम की मात्रा।

तापमान यंत्र—(सं. पुं.) तापमान की मात्रा नापने का यंत्र जिसको अँगरेजी में थर्मामीटर कहते हैं।

तापश्चित्त—(सं. स्त्री.) यज्ञ की अग्नि का एक भेद, एक यज्ञ का नाम।

तापस—(सं. पुं.) तपस्या करनेवाला, तपस्वी, दौना नामक पौधा, तमालपत्र, तेजपत्ता, एक प्रकार का वगला।

तापसक—(सं. पुं.) सामान्य योगी, छोटा तपस्वी।

तापसज—(सं. पुं.) तमालपत्र, तेजपत्ता।

तापसतर—(सं. पुं.) हिंगोट का वृक्ष।

तापसद्रुम—(सं. पुं.) देखें 'तापसतर'।

तापसपत्री—(सं. स्त्री.) दमनक, दौना।

तापसप्रिय—(सं. पुं.) चिरौजी का वृक्ष।

तापसप्रिया—(सं. स्त्री.) द्राक्षा, मुनक्का।

तापसवृक्ष—(सं. पुं.) देखें 'तापसतर'।

तापसी—(सं. स्त्री.) तपस्या करनेवाली स्त्री, तपस्वी की स्त्री।

तापस्य—(सं. पुं.) तापस धर्म।

तापस्नेद—(सं. पुं.) आँच आदि की सेंक

के द्वारा पसीना निकालने की विधि ।
तापहर-(सं. वि.) तापनाशक, ज्वर को दूर करनेवाला ।
तापहरी-(सं. स्त्री.) उरदी की वरी और चावल की बनी हुई खिचड़ी ।
तापा-(हि.पुं.) मछली मारने का साधन, मुरगी का दरवा ।
तापिक-(सं.वि.) ताप या गरमी से उत्पन्न होनेवाला ।
तापिच्छ-(सं.पुं.) तमालवृक्ष, एक प्रकार का फल ।
तापित-(सं. वि.) तापयुक्त, जो तपाया गया हो, दुःखित, पीड़ित ।
तापी-(सं. वि.) तापक, ताप देनेवाला, तापयुक्त, जिसमें ताप हो; (स्त्री.) सूर्य की कन्या, ताप्ती नदी, यमुना नदी ।
तापेश्वर-(सं.पुं.) एक तीर्थ का नाम ।
ताव-(फा. स्त्री.) हिम्मत, सामर्थ्य, धैर्य ।
तावड़-तोड़-(हि. अव्य.) लगातार, क्रम से, बराबर ।
तावे-(अ. वि.) वशीभूत, अधीन, मातहत ।
तावेदार-(फा. वि.पुं.) आदेश का पालन करनेवाला, सेवक, दास ।
तावेदारी-(फा. स्त्री.) आज्ञा-पालन, सेवा, दासता ।
ताम-(सं.वि.) भयंकर, डरावना;(पुं.) दोष, विकार, दुःख, क्लेश, कष्ट, व्याकुलता, घबड़ाहट, ग्लानि, पाप; (हि.पुं.) क्रोध, अन्धकार, अंधेरा ।
तामजान-(हि.पुं.) विना छत्र की एक प्रकार की खुली पालकी ।
तामड़ा-(हि. वि.) ताँव के समान रंग का; (पुं.) ऊँचे (बैंगनी) रंग का एक प्रकार का पत्थर, एक प्रकार का कागज, गंजी खोपड़ी ।
तामर-(सं.पुं.) जल, घृत, घी ।
तामरस-(सं.पुं.) पद्म, कमल, सोना, ताँवा, घतूरा, सारस पक्षी, एक प्रकार का छन्द जिसमें बारह अक्षर होते हैं ।
तामरसी-(सं.स्त्री.) पद्मिनी, कमलिनी ।
तामलकी-(सं. स्त्री.) भुई-आँवला ।
तामलक-(हि.पुं.) ताम्रलिप्त, बंग देश के एक प्रान्त का नाम ।
तामलेट-(हि.पुं.) (अंगरेजी 'टम्बलर' शब्द का अपभ्रंश) टीन या लोहे के गिलास के आकार का पात्र ।
तामस-(सं.पुं.) सर्प, साँप, दुष्ट, उल्लू, क्रोध, अज्ञान, मोह, अन्धकार, अंधेरा, चतुर्यं मनु का नाम, शिव के एक अनुचर का नाम; (वि.) जिसमें

तमोगुण प्रधान हो; -त्राण-(पुं.) एक शस्त्र का नाम; -मद्य-(पुं.) मदिरा जो कई बार खींची (चुआई) गई हो; -संन्यासी-(पुं.) गृहस्थाश्रम त्यागकर मोक्ष की कामना से जंगल-जंगल घूम-घूमकर तपस्या करनेवाला मनुष्य ।
तामसिक-(सं.पुं.) तमोगुण का भाव; (वि.) तामसी ।
तामसी-(सं. वि. स्त्री.) तमोगुणवाली; (स्त्री.) अंधेरी रात, महाकाली, जटामासी, वालछड़, एक प्रकार की महाविद्या ।
तामिल-(पुं., स्त्री.) दक्षिण भारत की एक जाति और उनकी भाषा, द्रविड़ भाषा ।
तामिल-(सं.पुं.) एक नरक का नाम जहाँ सर्वदा घोर अन्धकार बना रहता है, क्रोध, द्वेष, वह क्रोध जो भोग की इच्छा-पूर्ति न होने पर आता है ।
तामिल-(अ. स्त्री.) आज्ञा का पालन, अमल करना ।
तामिसरी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का तामड़ा रंग जो ताँवे के योग से बनाया जाता है ।
ताम्र-(सं.पुं.) ताँवा नामक धातु; महि-पासुर के एक प्रधान सेनापति का नाम; -क-(पुं.) ताम्र, ताँवा; -कर्णो-(पुं.) ताँवे का पात्र बनानेवाला; -कार-(पुं.) कसेरा जाति; -कीट-(पुं.) वीरबहूटी नामक कीड़ा; -कुंड-(पुं.) वह ताँवे का पात्र जिसमें पूजा का जल गिराया जाता है; -कुट्ट-(पुं.) तमाखू का पौधा; -कूट-(पुं.) तमाखू का पौधा; -कृमि-(पुं.) देखें 'ताम्र-कीट', वीरबहूटी; -गर्भ-(पुं.) तुल्य, तृतिया; -चक्षु-(पुं.) कपोत, कबूतर; (वि.) लाल नेत्रोंवाला; -चूड़-(पुं.) कुक्कुट, कुकरौंवा, कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम; -तनु-(वि.) जिसके शरीर का रंग ताँव के समान हो; -तुंड-(पुं.) लाल मुँह का एक प्रकार का वन्दर; -त्व-(पुं.) रक्तवर्ण, लाली; -द्गु-(पुं.) रक्त चन्दन, लाल चंदन; -धातु-(पुं.) ताम्र, ताँवा; -धूम्र-(पुं.) तामड़ा, लाल रंग; -ध्वज-(पुं.) मयूरवज्र के पुत्र का नाम जिन्होंने श्रीकृष्ण और अर्जुन को युद्ध में हराया था; -पक्षा-(स्त्री.) श्रीकृष्ण की एक कन्या का नाम; -पक्षी-(पुं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम; -पट्ट, -पत्र-(पुं.) लाल रंग के पत्तोंवाला एक प्रकार

का वृक्ष; ताँवे की चट्ट का टुकड़ा जिस पर प्राचीन समय में दानपत्र आदि खुद-वाये जाते थे; लाल रंग की नई पत्ती; -पत्रक-(पुं.) देखें 'ताम्रपत्र'; -पर्ण-(पुं.) सिंहलद्वीप का प्राचीन नाम; -पर्णी-(स्त्री.) मद्रास के अन्तर्गत तिरुने-वेलि जिले की एक नदी, सिंहल द्वीप का एक नगर, सरोवर, तालाव, मजीठ; -पल्लव-(पुं.) अशोक वृक्ष; -पाकी-(पुं.) पाकर का वृक्ष; -पात्र-(पुं.) तर्पण आदि करने का ताँवे का पात्र; -पादी-(स्त्री.) हंसपदी नामक लता; -पुष्प-(पुं.) लाल फूल का कचनार; -पुष्पी-(स्त्री.) धव का वृक्ष, नारंगी का पेड़; -फल-(पुं.) लाल रंग का फल; -फलक-(पुं.) ताँवे की चट्ट का टुकड़ा; -मुख-(वि.) जिसका मुख लाल रंग का हो; -मूला-(स्त्री.) जवासा, लजालू, कवाच, मजीठ, लाल जड़वाला वृक्ष; -सूग-(पुं.) लाल रंग का हिरन; -लिप्त-(पुं.) तमलक नामक स्थान का प्राचीन नाम; -वर्ण-(पुं.) लाल रंग, सिंहल द्वीप, लंका; -वर्णी-(स्त्री.) अडहुल का फूल; -वल्ली-(स्त्री.) मञ्जिष्ठा, मजीठ; -बीज-(पुं.) कुलथी, वह वृक्ष जिसके फल लाल होते हैं; -वृत्त-(पुं.) कुलथी का पौधा या बीज; -वृक्ष-(पुं.) लाल चन्दन का वृक्ष, कुलथी; -शासन-(पुं.) राजा का अनुशासन जो ताँवे की चट्ट पर खुदा हो; -शिखी-(पुं.) कुक्कुट; -सार-(पुं.) रक्तचन्दन, रक्तसार; -सारक-(पुं.) लाल खैर ।
ताम्रा-(सं.स्त्री.) दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम, गुंजा, घुंघची की लता ।
ताम्राक्ष-(सं.पुं.) कोकिल, कोयल; (वि.) जिसकी आँखें लाल हों ।
ताम्राभ-(सं.पुं.) लाल चन्दन; (वि.) जिसमें लाल रंग की आभा हो ।
ताम्राध्र-(सं.पुं.) काँसा नामक धातु ।
ताम्रावती-(सं.स्त्री.) एक नदी का नाम ।
ताम्राश्म-(सं.पुं.) पद्मराग नामक मणि ।
ताम्रिक-(सं.पुं.) कसेरा; (वि.) ताँवे का बना हुआ ।
ताम्रिका-(सं. स्त्री.) घुंघची, एक प्रकार का प्राचीन वाजा ।
ताम्री-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का वाजा, प्राचीन काल की समय बतलाने की जल-घड़ी ।
ताम्रेश्वर-(सं.पुं.) पारद के योग से बना

हुआ ताम्र का मस्म ।

ताम्रोपजीवी—(सं.पुं.) कांस्यकार, कसेरा ।
ताम्रोष्ठ—(सं.पुं.) जिसके ओठ लाल रंग के हों ।

ताय—(हि. अव्य.) तक ।

ताय—(हि. पुं.) ताप, गरमी, धूप, उष्णता, जलन; (सर्व.) देखें 'ताहि' ।

तायदाद—(हि. स्त्री.) देखें 'तादाद' ।

तायना—(हि. क्रि. स.) तपाना, गरम करना ।

ताया—(हि. पुं.) पिता का बड़ा भाई, बड़ा चाचा ।

तायु—(सं. पुं.) दस्यु, चोर ।

तार—(सं. पुं.) रूपा, चाँदी, प्रणव, अक्षर मन्त्र, एक प्रकार का बन्दर, शुद्ध मोती, तारण, उद्धार, विष्णु, शिव, नक्षत्र, तारा, तीव्र शब्द, तीर, किनारा, ऊँचा स्वर, वह वर्णवृत्त जिसमें अठारह अक्षर होते हैं; (वि.) निर्मल, स्वच्छ; (हि. पुं.) धातु को खींचकर बनाया हुआ सूत, वह तार जिससे बिजली की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को समाचार भेजा जाता है, समाचार जो इस प्रकार आता-जाता है, सूत्र, तागा, परम्परा, क्रम, युक्ति, उपाय, कार्य-सिद्धि का सुयोग, व्यवस्था, सुविधा, संगीत का एक सप्तक, करताल, मजीरा, तल, सतह, कान म पहिनने का एक गहना तरकी; (मुहा.)—तार करना—सूत-सूत अलगाना;—बँधना—किसी कार्यक्रम का आरंभ होना;—बँटना—सुविधा होना ।

तारक—(सं. पुं.) चक्षु, आँख, आँख की पुतली, नक्षत्र, तारा, तारकासुर, वह जो पार उतारता हो, भवसागर से पार करनेवाला, राम का षडक्षर मन्त्र, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में अठारह अक्षर होते हैं, भिलावाँ;—जित्—(पुं.) स्कंद या कार्तिकेय जिन्होंने तारकासुर का वध किया था;—टोड़ी—(हि. स्त्री.) एक राग का नाम;—तीर्थ—(पुं.) गया तीर्थ;—ब्रह्म—(पुं.) राम का षडक्षर मन्त्र 'ॐ रामाय नमः'; रामतारक मन्त्र ।

तार-कमानी—(हि. स्त्री.) तार लगा हुआ धनुष जो तृणों के काटने के काम में आता है, जेब घड़ी की महीन कमानी ।

तारकश—(हि. पुं.) वह जो धातु के तार खींचता हो ।

तारकशी—(हि. स्त्री.) तार खींचने का व्यवसाय ।

तारकति—(सं. पुं.) कुमार कार्तिकेय ।

तारका—(सं. स्त्री.) तारा, नक्षत्र, आँख की पुतली, इन्द्रवाल्मी नामक लता, मुक्ता, मोती, देवताड़ नामक वृक्ष, बालि की स्त्री तारा, नाराच नामक छन्द का नाम, देखें 'ताड़का' ।

तारकाक्ष, तारकाख्य—(सं. पुं.) तारकासुर के बड़े पुत्र का नाम ।

तारकामय—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

तारकायण—(सं. पुं.) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम ।

तारकासुर—(सं. पुं.) एक असुर का नाम जो शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिकेय द्वारा मारा गया था ।

तारकित—(सं. वि.) नक्षत्रयुक्त, जो तारों से सुशोभित हो ।

तारकिनो—(सं. स्त्री.) नक्षत्रों से पूर्ण रात्रि ।

तारकूट—(हि. पुं.) चाँदी और पीतल के योग से बनी हुई एक धातु ।

तारकेश्वर—(सं. पुं.) हुगली जिला के अन्तर्गत एक पुण्य स्थान, महादेव, शिव ।

तारकोल—(हि. पुं.) अलकतरा ।

तारधर—(हि. पुं.) वह धर जहाँ से तार द्वारा समाचार भेजा जाता और प्राप्त होता है ।

तारघाट—(सं. पुं.) कार्यसिद्धि का उपाय, व्यवस्था ।

तारण—(सं. पुं.) तेली, विष्णु, पार उतरने की क्रिया, उद्धार, निस्तार, साठ संवत्सरो में से अठारहवाँ वर्ष; (वि.) तारण या उद्धार करनेवाला ।

तारणि—(सं. स्त्री.) नौका, नाव ।

तारणी—(सं. स्त्री.) तारणि, कश्यप की एक पत्नी का नाम ।

तारतम्य—(सं. पुं.) न्यूनाधिक्य, कमी-बढ़ती का हिसाब, कमी-बेशी के हिसाब का क्रम; परिमाण, गुण आदि का परस्पर मेल;—बोध—(पुं.) अनक पदार्थों में से अच्छे-बुरे की पहिचान ।

तारतोड़—(हि. पुं.) कारचीवी का काम ।

तारवी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का काँटेदार वृक्ष ।

तारन—(हि. पुं.) छत या छाजन का ढालुआँ भाग, देखें 'तारण' ।

तारना—(हि. क्रि. स.) पार लगाना, उद्धार करना, मुक्त करना, भवसागर से पार करना, सब क्लेशों से निवृत्त करना ।

तारनाद—(सं. पुं.) उच्चनाद ।

तारपीन—(हि. पुं.) एक प्रकार का तेल जो चीड़ के पेड़ से निकलता है ।

तारपुष्प—(सं. पुं.) कुन्द का पुष्प ।

तारबर्की—(हि. स्त्री.) वह तार जिसके द्वारा बिजली की सहायता से समाचार भेजा जाता है ।

तारमाक्षिक—(सं. पुं.) चाँदी के योग से बनी एक उपधातु ।

तारयिता—(सं. पुं.) उद्धार करनेवाला, तारनेवाला, निस्तार करनेवाला ।

तारल्य—(सं. पुं.) तरल का गुण, द्रवत्व ।

तारा—(सं. स्त्री.) वानरराज बालि की पत्नी का नाम, अश्विनी नक्षत्र, दस महाविद्याओं में से एक का नाम;

(पुं.) आँख की पुतली, नक्षत्र, तारका, भाग्य, सितारा; (मुहा.)—टूटना—उल्कापात, तारे का आकाश से टूटकर पृथ्वी पर गिरना;—डबना—शुक्रास्त होना;

तारे गिनना—चिन्ता के कारण रात में नींद न आना; तारे तोड़ लाना—

किसी बड़े कठिन कार्य को पूरा करना; तारों की छाँह—सवरे, बहुत तड़के ।

ताराकूट—(सं. पुं.) फलित ज्योतिष में विवाह स्थिर करने के लिए वर और कन्या के शूभाशुभ फल को सूचित करनेवाला एक योग ।

ताराक्ष—(सं. पुं.) एक दैत्य का नाम ।

ताराग्रह—(सं. पुं.) मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और शनैश्चर ग्रह ।

ताराचक्र—(सं. पुं.) एक तन्त्रोक्त चक्रभेद ।

तारदेवी—(सं. स्त्री.) एक महाविद्या का नाम ।

ताराधिप, ताराधीश, तारानाथ—(सं. पुं.) चन्द्रमा, शिव, महादेव, बृहस्पति, बालि और सुग्रीव, नक्षत्रों के अधिपति, तारापति ।

तारापथ—(सं. पुं.) आकाश, आसमान ।

तारापीड—(सं. पुं.) चन्द्रमा, राजा चन्द्रपीड के एक पुत्र का नाम ।

ताराभ—(सं. पुं.) पारद ।

ताराभ्र—(सं. पुं.) कर्पूर, कपूर ।

तारामंडल—(सं. पुं.) नक्षत्र-मण्डल, नक्षत्रों का समूह, एक प्रकार की अग्नि-कीड़ा ।

तारामयी—(सं. वि. स्त्री.) तारा-जटित ।

तारामृग—(सं. पुं.) मृगशिरा नक्षत्र ।

तारायण—(सं. पुं.) आकाश, आसमान ।

तारावती—(सं. स्त्री.) इक्ष्वाकु-वंशी राजा चन्द्रशेखर की पत्नी का नाम; एक दुर्गा ।

तारावर्ष—(सं. पुं.) ताराओं का गिरना, उल्कापात ।

तारावली—(सं. स्त्री.) मणिभद्र यक्ष की कन्या का नाम, तारों का समूह।
 तारिका—(सं. स्त्री.) ताड़ी नामक मदिरा।
 तारिणी—(सं. स्त्री.) वौदों की एक देवी का नाम; (वि. स्त्री.) उद्धारिणी, उद्धार या निस्तार करनेवाली।
 तारी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का पक्षी; समाधिस्थान, देख 'ताली'; (सं. वि.) तारनवाला।
 तारीख—(अ. स्त्री.) दिनांक, दिन, निश्चित किया हुआ दिन; (मुहा.)—उलना—किसी काम का निश्चित दिन पर न होकर दूसरे दिन के लिए स्थगित होना;—डालना—तारीख निश्चित करना;—पढ़ना—तारीख निश्चित होना।
 तारीफ—(अ. स्त्री.) प्रशंसा, बड़ाई, परिचय, विशेषता।
 तारुण—(सं. वि.) तरुण, युवा अवस्था का।
 तारुण्य—(सं. पुं.) युवावस्था, यौवन, जवानी।
 तारेश—(सं. पुं.) चन्द्रमा।
 तार्किक—(सं. वि., पुं.) तर्कशास्त्र का जाननवाला, तर्क शास्त्र संबंधी।
 तार्क्ष—(सं. पुं.) कश्यप ऋषि, गरुड़।
 तार्क्षी—(सं. स्त्री.) गरुड़, छिरेटा की लता।
 तार्क्ष्य—(सं. पुं.) गरुड़, घोड़ा, सोना, रथ, महादेव;—केतन—(पुं.) गरुड़ध्वज, विष्णु;—ध्वज—(पुं.) देखें 'तार्क्ष्यकेतन';—प्रसव—(पुं.) एक प्रकार का साल का वृक्ष;—शैल—(पुं.) रसाञ्जन, रसवत।
 तार्ण—(सं. वि.) घास से संबंध रखनेवाला, घास का बना हुआ; (पुं.) घास से उत्पन्न अग्नि।
 तार्ण्य—(सं. वि.) पार करने योग्य।
 ताल—(सं. पुं.) करतल, हथेली, करतल-ध्वनि, ताली, हरताल, तालीशपत्र, हाथी के कान फटकारने से उत्पन्न शब्द, दुर्गा के सिंह का नाम, ताड़ का पेड़, महादेव, एक नरक का नाम, तलवार की मूट, वेल का फल, उपनेत्र (चश्मे) के पत्थर या काँच का एक पल्ला, एक वित्त की नाप, ताला, मजीरा, झाँझ, वह शब्द जो जाँघ या बाहु पर हथेली से मारने पर उत्पन्न होता है, नाचने-गाने में तान के काल और क्रिया का परिमाण जो हाथ से हाथ पर ठोक कर सूचित किया जाता है; (हिं. पुं.) तालाव; (मुहा.)—ठोकना—लड़ने के लिये ललकारना।

तालकंद—(सं. पुं.) तालमूली, मूसली।
 तालक—(सं. पुं.) हरताल, ताड़ का वृक्ष, गोपीचन्दन, ताला, द्वार का कपाट।
 तालकरीर—(सं. पुं.) ताड़का कोमल पत्ता।
 तालकाभ—(सं. पुं.) हलदी का पीलारंग।
 तालकी—(सं. स्त्री.) तालरस, ताड़ी।
 तालकूटा—(हिं. पुं.) झाँझ बजाकर भजन गानेवाला।
 तालकेतु—(सं. वि., पुं.) जिसके पताका पर ताड़ का चिह्न हो, भीष्म, बलराम।
 तालकोश—(सं. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष।
 तालकीर—(सं. पुं.) खजूर की चीनी, ताड़ी।
 तालगर्भ—(सं. पुं.) ताड़ का गुदा।
 तालजंघ—(सं. पुं.) एक प्राचीन देश का नाम।
 तालजटा—(सं. स्त्री.) ताड़ के वृक्ष की जटा।
 तालध्वज—(सं. वि., पुं.) देखें 'तालकेतु', बलराम।
 तालनवमी—(सं. स्त्री.) भादों सुदी नवमी।
 तालपत्र—(सं. पुं.) कान में पहिनने की तरकी, ताड़ का पत्ता।
 तालपत्रिका—(सं. स्त्री.) तालमूली, मूसली।
 तालपर्णी—(सं. स्त्री.) सौफ, कपूरकचरी, मूसली, सोआ का साग।
 तालपुष्प, तालपुष्पक—(सं. पुं.) ताड़ के पेड़ की जटा।
 तालवन्द—(हिं. पुं.) वह हिसाब जिसमें आय का प्रत्येक मद अलग-अलग दिखाई जाती है।
 ताल-वैताल—(हिं. पुं.) दो यक्ष या देवता जिनको राजा विक्रमादित्य ने अपने वश म कर लिया था और वे सर्वदा उनकी सैवा में रहा करते थे।
 तालमखाना—(हिं. पुं.) एक प्रकार का छोटा काँटेदार वृक्ष जिसके बीज औषध में प्रयुक्त होते हैं; देखें 'मखाना'।
 तालमदक—(सं. पुं.) एक प्रकार का बाजा।
 तालमूलिका, तालमूली—(सं. स्त्री.) मसली।
 तालमेल—(हिं. पुं.) ताल-सुर का मिलान, मेलजोल, अनुकूल संयोग, सुअवसर।
 तालयंत्र—(सं. पुं.) एक प्रकार का यन्त्र जो नाक, कान तथा नाड़ी के शल्य-कर्म में प्रयुक्त होता था।
 तालरस—(सं. पुं.) ताड़ का मद्य, ताड़ी।
 ताललक्षण—(सं. पुं.) बलराम, तालध्वज।
 तालवन—(सं. पुं.) ताड़ के पेड़ों का वन या जंगल, मधुवन के पास ब्रज के एक जंगल का नाम।
 तालवाही—(सं. वि.) (वह बाजा) जिससे ताल दिया जाय।
 तालवृत्त—(सं. पुं.) ताड़ के पत्ते का घना

हुआ पंखा।
 तालव्य—(सं. वि.) तालु से उच्चारण किया जानेवाला (वर्ण)—इ, ई, च, छ, ष, झ, ञ, य और श—ये वर्ण तालव्य हैं।
 तालशस्य—(सं. पुं.) ताड़ के फल के भीतर का गुदा।
 तालसत्त्व—(सं. पुं.) हरताल का भस्म।
 तालस्कंध—(सं. पुं.) एक प्राचीन अस्त्र का नाम, तमाल-वृक्ष।
 ताला—(हिं. पुं.) किवाड़, सन्दूक आदि को बन्द करने का वह यन्त्र जो विशिष्ट ताली से ही खुलता है; (मुहा.)—तोड़ना—किसी की वस्तु चुराने के लिये बंद ताले को तोड़ना।
 ताला-कुंजी—(हिं. स्त्री.) वह यन्त्र जिससे किवाड़, सन्दूक आदि बन्द किया जाता है, लड़कों का एक खेल।
 तालाब—(हिं. पुं.) जलाशय, सरोवर।
 तालावली—(हिं. स्त्री.) व्याकुलता।
 तालावचर—(सं. पुं.) नट।
 तालि—(सं. स्त्री.) सुनने में रकावट, आघात।
 तालिक—(सं. पुं.) तमाचा, चपत, ताल-पत्रों को बाँधने का डोरा।
 तालिका—(सं. स्त्री.) मूसली, मजीठ, तालपत्र अथवा कागज का पुलिन्दा, सूची, ताली, कुंजी।
 तालित—(सं. पुं.) रंगा हुआ वस्त्र, डोरी, रस्सी।
 तालिश—(सं. पुं.) पर्वत, पहाड़।
 ताली—(सं. स्त्री.) भुईआमला, मूसली, अरहर, एक प्रकार का छोटा ताड़ का वृक्ष, ताला खोलने का यन्त्र, कुंजी, मेहराव के बीचोबीच पत्थर की पटिया, एक प्रकार का वर्णवृत्त, ताड़ का मद्य, ताड़ी, हथलियों को परस्पर पीटने की क्रिया, करतल-ध्वनि; (हिं. स्त्री.) छोटा ताल या गड़ही; (मुहा.)—पीटना या ब्रजाना—उपहास करना, हँसी उड़ाना।
 तालीपत्र—(सं. पुं.) देख 'तालीशपत्र'।
 तालीम—(अ. स्त्री.) शिक्षा।
 तालीयक—(सं. पुं.) करताल, मँजीरा।
 तालीश, तालीशपत्र—(सं. पुं.) तमाल या तेजपत्ते की जाति का एक वृक्ष जिसकी पत्तियाँ दवा के काम में आती हैं; एक प्रकार का भुईआँवला।
 तालु—(सं. पुं.) मुख के भीतर ऊपर की ओर की पूरी छत;—फँटक—(पुं.) बच्चों का एक रोग जिसमें तालु घँस जाता है और पतला दस्त होता है;

-क- (पुं.) एक प्रकार का तालू का रोग;
-जिह्व- (पुं.) कुम्भीर, घड़ियाल, अलि-
जिह्व, गले का कौवा; -पाक (पुं.)
तालू का एक प्रकार का रोग; -पात-
(पुं.) बच्चों के तालू में होनेवाला एक
रोग; -यंत्र- (पुं.) देखें 'तालयंत्र';
-शोष- (पुं.) तालू सूखने का रोग।

तालू- (हि.पुं.) तालू, मुख के भीतर की ऊपरी
छत, खोपड़ी के नीचे का भाग; (मुहा.)
-चटकना-प्यास से मुंह सूखना; -में
दांत जमना-कोई अनहित होना; -से
जीभ न लगना-निरन्तर बकते जाना।
तालूफाड़- (हि.पुं.) हाथी के तालू में
होनेवाला एक रोग।

तालूर- (सं.पुं.) पानी का भँवर, आवर्त।
तालेवर- (हि.वि.) घनाढ्य, अमीर, धनी।
ताल्वर्द्ध- (सं.पुं.) एक प्रकार का रोग
जिसमें तालू में व्रण निकल आता है।

ताव- (हि.पुं.) वह उष्णता जो किसी
वस्तु को गरम करने या पकाने के लिये
पहुँचाई जाय, क्रोध का आवेश जिसमें
अधिकार की झलक हो, अहङ्कार,
तत्काल होनेवाली उत्कट इच्छा, कागज
का एक तख्ता; (मुहा.)-आना-गरम
होना; -खाना-अग्नि पर गरम
होना; -चढ़ना-उत्कट इच्छा होना;
-देना-गरम करना, हथियार आदि पर
पानी चढ़ाना; (मूर्खों पर)-देना-गव
के कारण मूर्खों पर हाथ फेरना; -दिख-
लाना-अभिमान सहित क्रोध दिखलाना;
-से आना-उत्तेजित होना।

तावत्- (सं.अव्य.) उतने परिमाण तक,
उतना, उतनी देर तक, वहाँ तक।

तावना- (हि.क्रि.स.) तपाना, गरम
करना, कष्ट देना।

तावन्मात्र- (सं.वि.) उतने ही परिमाण
का, उतना।

तावर्द्ध- (हि.पुं.) एक प्रकार का रासाय-
निक द्रव्य जिसके प्रयोग से तपाने पर भी
चाँदी के खोटापन का पता नहीं चलता।

तावभाव- (हि.पुं.) परिस्थिति, उपयुक्त
अवसर, मौका।

तावर- (सं.पुं.) धनुष की डोरी, चिल्ला।
तावरी- (हि.स्त्री.) दाह, ताप, धर्म,
धूप, धाम, ज्वर, मूर्च्छा, सिर का चक्कर।

तावान- (फा.पुं.) हरजाना, अर्थ-दंड।
ताविष- (सं.पुं.) स्वर्ग, समुद्र।

ताविषी- (सं.स्त्री.) देवकन्या, पृथ्वी, नदी।
तावीज- (अ.पुं.) यंत्र-मंत्र का संपुट जो
किसी अनिष्ट से रक्षा के लिए अंग पर

धारण किया जाय, जंतर।

तावीषी- (सं.स्त्री.) इन्द्र की कन्या का नाम।

ताश- (हि.पुं.) खेलने के लिये मोटे कागज
के आयताकार ५२ टुकड़े जिनपर लाल
या काले रंग की बूटियाँ या तसवीरें
बनी रहती हैं, ताश का खेल, एक प्रकार
का जर्दोजी कपड़ा, तागा लपेटने की
मोटे कागज की छोटी दपती।

ताशा (सा)- (हि.पुं.) चमड़ा मड़ा हुआ
खपचियों से बजाया जानेवाला एक
बाजा।

तासला- (हि.पुं.) भालू के गले में बँधी
हुई रस्ती जिसको पकड़कर कलन्दर
उसको नचाते हैं।

तासीर- (अ.स्त्री.) असर, प्रभाव।

तासु- (हि.सर्व.) उसका।

तासों- (हि.सर्व.) उससे।

तास्कर्य- (सं.पुं.) तस्करता, चोरी।

ताहम- (फा.अव्य.) तो भी।

ताहि- (हि.सर्व.) उसको, उसे।

ताहीं- (हि.अव्य.) ताई, तई।

तितिडी- (सं.स्त्री.) इमली।

ति- (हि.आदिपद.) कुछ योगिक पदों
के आरंभ में तीन का सूचक शब्द,
जैसे-तिकोना, तिआह आदि।

तिआ- (हि.स्त्री.) देखें 'तिया'।

तिआह- (हि.वि.पुं.) (जिस पुरुष) का
तीसरा विवाह होने को हो।

तिकड़म- (हि.पुं.) युक्ति, उपाय।

तिकड़मी- (हि.वि.) तिकड़म करनेवाला।

तिकड़ी- (हि.स्त्री.) वह जिसमें तीन
कड़ियाँ हों, तीन-तीन रस्सियों को एक
साथ लेकर चारपाई विनन की विधि।

तिकोन- (हि.वि.) तिकोना।

तिकोना- (हि.वि.) तीन कोनोंवाला; (पुं.)
एक प्रकार का नमकीन पकवान, समोसा।

तिकोनिया- (हि.वि.) तीन कोनों का,
त्रिकोण।

तिक्का- (हि.पुं.) वह ताश का पत्ता
जिसमें तीन बूटियाँ रहती हैं।

तिक्की- (हि.स्त्री.) ताश या गंजीफे का वह
पत्ता जिसमें तीन बूटियाँ रहती हैं।

तिक्क- (हि.वि.) तीक्ष्ण, तीखा, चोखा,
चतुर।

तिक्क- (सं.पुं.) पित्तपापड़ा, कुटज वृक्ष;
(वि.) कटु स्वादवाला, तीता, कडुआ,
नीम या चिरायते के स्वाद का;

-कंठिका- (स्त्री.) वनकचूर; -क- (पुं.)
परवल, चिरायता, काला खैर, नीम का
वृक्ष, तीता रस, इंगुदी वृक्ष, कुटज;

-कांड- (पुं.) भूनिव, चिरायता;

-का- (स्त्री.) कडुआ कदू, का कर्जवा;

-कोशातकी- (स्त्री.) कडुई तरौई;

-गंधा- (स्त्री.) वाराहीकन्द, सफेद
सरसों; -गुंजा- (स्त्री.) करंज;

-तंडुला- (स्त्री.) पिप्पली, पीपल;

-ता- (स्त्री.) तीतापन, कडुआपन;

-तुंडी- (स्त्री.) कडुई तरौई की लता;

-तुंबी- (स्त्री.) तितलौकी; -तुग्घा-

(स्त्री.) खिरनी, मेढासिंगी; -घातु-

(पुं.) पित्त; -पत्र- (पुं.) ककोड़ा, खखसा,
कडुई पत्ती; -पर्णिका, -पर्णी-

(स्त्री.) कचरी, पेंहटा; -पर्वा- (स्त्री.)

गुरुच, मुलेठी, दूब; -पुष्पा- (स्त्री.) पाठा;

-फल- (पुं.) केतक का वृक्ष, रीठा;

(वि.) कड़वे फलवाला; -फला- (स्त्री.)

भटकटैया; -भद्रक- (पुं.) पटोल, परवल;

-यवा- (स्त्री.) शंखिनी लता; -रोहिणी-

(स्त्री.) कुटकी; -वल्ली- (स्त्री.) मरोड़

फली, मूर्वा; -बीजा- (स्त्री.) तितलौकी;

-शाक- (पुं.) एक प्रकार का कडुआ

साग; -सार- (पुं.) खदिर, खैर।

तिक्ता- (सं.स्त्री.) कुटकी, पाठा,
नकछिकनी।

तिवितका- (सं.स्त्री.) कुटकी, तितलौकी।

तिक्ष- (हि.वि.) तीक्ष्ण, तीखा, चोखा।

तिक्षता- (हि.स्त्री.) तीक्ष्णता, चोखापन,
तेजी।

तिखाई- (हि.स्त्री.) तीक्ष्णता, तीखापन।

तिखारना- (हि.क्रि.अ.) सहेजना, कई
वार कहना।

तिखुंटा- (हि.वि.) त्रिकोण, जिसमें तीन
कोन हों, तिकोना।

तिगुना- (हि.वि.) तीन वार अधिक,
तीन गुना।

तिग्म- (सं.पुं.) वज्र, पिप्पली, पीपल;

(वि.) तीक्ष्ण, तेज; -कर- (पुं.)

सूर्य, तेज प्रकाश; -जंभ- (वि.) तेज

तापवाला; -ता- (स्त्री.) तीक्ष्णता;

-दीधिति- (पुं.) तिग्मांशु, सूर्य; -सन्धु-

(वि.) जिसको अधिक क्रोध हो; (पुं.)

शिव, महादेव; -रश्मि- (पुं.) सूर्य;

(वि.) जिसकी किरण तीव्र हो; -श्रृंग-

(वि.) नुकीला सींगवाला; -हेति-

(स्त्री.) तीक्ष्ण ज्वाला।

तिग्मांशु- (सं.पुं.) सूर्य, तीव्र प्रकाश;

(वि.) जिसकी किरण तीव्र हो।

तिग्मायुध- (सं.पुं.) पैना शस्त्र।

तिच्छ- (हि.वि.) तीक्ष्ण।

तिच्छन- (हि.वि.) तीक्ष्ण, तेज।

तिजरा—(हि. पुं.) तीसरे दिन आनेवाला ज्वर, तिजारी।

तिजहरिया, तिजहरी—(हि. स्त्री.) तीसरा पहर।

तिजारत—(अ. स्त्री.) व्यापार, रोजगार।
तिजारी—(हि. स्त्री.) जाड़ा देकर तीसरे दिन आनेवाला ज्वर।

तिजिल—(सं. पुं.) चन्द्रमा, राक्षस।

तिजोरी—(हि. स्त्री.) लोहे का सन्दूक।

तिड़ी—(हि. स्त्री.) ताश का वह पत्ता जिसमें तीन बूटियाँ हों; (मुहा.)
—करना—हटा देना, छितराना।

तिड़ीविड़ी—(हि. वि.) अस्तव्यस्त, छितराया हुआ, तितर-वितर।

तित—(हि. अव्य.) तहाँ, वहाँ, उधर की ओर, उस ओर।

तितउ—(सं. पुं.) छलनी, चलनी, छाता।

तितना—(हि. वि.) उतने परिमाण का, उतना।

तितर-वितर—(हि. वि., अव्य.) अव्यवस्थित, बिखरा हुआ, छितराया हुआ, तिड़ी-विड़ी।

तितरोखी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छोटा पक्षी।

तितली—(हि. स्त्री.) एक उड़नेवाला रंग-बिरंगे परों का कीड़ा या फर्तिगा जो फलों के पराग और रस चूसकर जीता है, एक प्रकार की घास जो गेहूँ, जव आदि के साथ उपजती है।

तितलौआ—(हि. पुं.) कड़ुआ कद्दू, तितलौकी।

तितलौकी—(हि. स्त्री.) कड़ुआ कद्दू।

तितारा—(हि. पुं.) सितार के प्रकार का बाजा जिसमें तीन तार लगे रहते हैं, खेत की तीसरी बार की सिंचाई।

तितिक्ष—(सं. वि.) जो सरदी-नारमी को समान भाव से सहन करता हो, सहनशील; (पुं.) एक ऋषि का नाम।

तितिक्षा—(सं. स्त्री.) सरदी-नारमी सहन करने की सामर्थ्य, क्षमा, क्षान्ति।

तितिक्षित—(सं. वि.) सहिष्णु, क्षान्त।

तितिक्षु—(सं. वि.) क्षमाशील, क्षान्त, सहिष्णु।

तितिभ—(सं. पुं.) इन्द्रगोप, वीरवहूटी, जुगनू।

तितिर—(सं. पुं.) तीतर नाम का पक्षी।

तितिल—(सं. पुं.) मिट्टी की नाँद, एक प्रकार का तिल का पक्वान्न, ज्योतिष में एक करण का नाम।

तितीर्षा—(सं. स्त्री.) तरने की अमिलाषा, तर जाने की इच्छा।

तितीर्षु—(सं. वि.) तरने की इच्छा

करनेवाला, जो निस्तार प्राप्त करने की इच्छा करता हो।

तित्तिर—(सं. पुं.) तीतर नामक पक्षी, तितली नाम की घास।

तित्तिरि—(सं. पुं.) तीतर नाम का पक्षी, यजुर्वेद की एक शाखा।

तित्तिरीक—(सं. पुं.) आँख में लगाने का एक प्रकार का अंजन जो तीतर के परों को जलाकर बनाया जाता है।

तित्ते—(हि. वि.) उतने, उतनी संख्या के।

तित्तेक—(हि. वि.) उतना।

तित्ते—(हि. अव्य.) वहाँ, उधर, वहाँ।

तित्तो—(हि. वि.) उतना।

तिथि—(सं. स्त्री.) चान्द्रमास के अलग-अलग दिन, अमावस्या से पूर्णिमा तक तथा पूर्णिमा से अमावस्या तक की चन्द्रमा की कलायें, दिन, मिति, पन्द्रह की संख्या; -क्षय—(पुं.) किसी तिथि की हानि, दिन का क्षय; -पति—(पुं.) तिथियों के अधिपति; पत्र—(पुं.) जंत्री, पंचांग; -प्रणी—(पुं.) चन्द्रमा; -युग्म—(पुं.) तिथि का जोड़ा, दो तिथियाँ; -संधि—(पुं.) दो तिथियों का एक में मिलना।

तिदरी—(हि. स्त्री.) वह कोठरी जिसमें तीन खिड़कियाँ या दरवाजे हों।

तिदारी—(हि. स्त्री.) वक्क के प्रकार का एक पक्षी।

तिधर—(हि. अव्य.) उस ओर, उधर।

तिधारा—(हि. पुं.) एक प्रकार का सेंहुड़ जिसमें पत्ते नहीं होते और जिसकी डालियाँ तिकोनी होती हैं।

तिन—(हि. सर्व.) 'तिस' का बहुवचन; (पुं.) तृण, तिनका।

तिनकना—(हि. क्रि. अ.) चिढ़ना, क्रुद्ध होना, चिड़चिड़ाना, नाराज होना।

तिनका—(हि. पुं.) तृण, सूखी घास का टुकड़ा; (मुहा.)—तोड़ना—सम्बन्ध का त्याग करना; तिनके का सहारा—थोड़ा-सा अवलम्ब; तिनके को पहाड़ करना—छोटी-सी बात को बढ़ाकर बखेड़ा करना; दाँतों में तिनका पकड़ना—गिड़गिड़ाता, विनय करना।

तिनगना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'तिनकना'।

तिनगरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पक्वान्न।

तिनपहल, तिनपहला—(हि. वि.) जिसमें तीन पहल हों, तीन पहलोंवाला।

तिनिज्ञ—(सं. पुं.) शीशम की जाति का एक वृक्ष।

तिनुका—(हि. पुं.) तृण, तिनका।

तिन्ना—(हि. पुं.) तिन्नी नामक धान, रोटी के साथ खाने की रसेदार तरकारी, एक वर्णवृत्त का नाम।

तिन्नी—(हि. स्त्री.) तालों में होनेवाला एक प्रकार का छोटा धान, नीषार।

तिन्ह—(हि. सर्व.) देखें 'तिन'।

तिपति—(हि. स्त्री.) देखें 'तृप्ति'।

तिपल्ला—(हि. वि.) जिसमें तीन पल्ले हों।

तिपाई—(हि. स्त्री.) तीन पायों की छोटी ऊँची चौकी।

तिपाड़—(हि. पुं.) तीन किनारे या तीन पल्लों की कोई वस्तु, तीन पाट जोड़कर बना हुआ ओढ़ना।

तिबारा—(हि. वि., अव्य.) तीसरी बार (का); (पुं.) वह घर या कोठरी जिसमें तीन द्वार हों, तीन बार उतारा हुआ अर्क या मद्य।

तिबासी—(हि. वि.) (वह खाद्य पदार्थ) जो तीन दिन का बासी हो।

तिव्वत—(पुं.) हिमालय पर्वत के उत्तर के एक देश का नाम, मोट।

तिव्वती—(हि. वि.) तिव्वत में उत्पन्न, तिव्वत सम्बन्धी; (स्त्री.) तिव्वत की भाषा; (पुं.) तिव्वत देश का रहनेवाला।

तिमंजिला—(हि. वि.) तीन खण्डों का (गृह आदि)।

तिमंगिल—(सं. पुं.) ह्वेल नामक मछली, एक प्राचीन द्वीप का नाम।

तिमि—(सं. पुं.) समुद्र में रहनेवाला सबसे बड़ा स्तनपात्री मत्स्य, ह्वेल मछली, समुद्र, रतौंधी का रोग; (हि. अव्य.) उस प्रकार से।

तिमिज—(सं. पुं.) तिमि नामक मछली से निकलनेवाला मोती।

तिमित—(सं. वि.) निश्चल, स्थिर, भीगा हुआ, आर्द्र।

तिमिध्वज—(सं. पुं.) एक दानव का नाम जिसको इंद्र ने मारा था।

तिमिर—(सं. पुं.) अन्धकार, अँधेरा, आँखों के आगे धुँधला दिखाई पड़ने का रोग; -भिद्—(वि.) अन्धकार को नाश करनेवाला; -रिपु—(पुं.) सूर्य, दीपक; -हर—(पुं.) सूर्य, दीपक।

तिमिरारि—(सं. पुं.) अन्धकार का शत्रु, सूर्य।

तिमिरारी—(हि. स्त्री.) अन्धकार का समूह।

तिमिरावलि—(सं. स्त्री.) देखें 'तिमिरारी'।

तिमुहानी—(हि. स्त्री.) वह स्थान जहाँ तीन सड़कें या नदियाँ मिली हों।

तिय—(हि. स्त्री.) स्त्री, पत्नी।

तियला—(हि. पुं.) स्त्रियों का एक प्रकार का पहनावा।

तिया—(हि.स्त्री.) वह ताश का पत्ता जिसमें तीन बूटियाँ हों, देख 'तिय'।

तिरकना—(हि. क्रि. अ.) तड़कना।

तिरकुटा—(हि. पुं.) त्रिकटु—सोंठ, मिर्च, पीपल; इन तीनों कटु औषधियों का समुदाय।

तिरखा—(हि. स्त्री.) तृषा, प्यास।

तिरखित—(हि. वि.) देखें 'तृषित'।

तिरखूँटा—(हि. वि.) त्रिकोणयुक्त, तिकोना, जिसमें तीन कोन हों।

तिरछई—(हि. स्त्री.) तिरछापन।

तिरछा—(हि. वि.) जो सीधा न हो, टेढ़ा, जो ठीक सीधा न होकर एक ओर झुक गया हो; (पुं.) एक प्रकार का वस्त्र जो अस्तर में लगाया जाता है;—तिरछा छैला; तिरछी चितवन—तिर्यक्दृष्टि, सिर को बिना घुमाये हुए कनखी से देखना;

तिरछी बात—अप्रिय या कटु वचन;

तिरछी बैठक—मलखंभ का एक व्यायाम।

तिरछाई—(हि. स्त्री.) तिरछापन।

तिरछाना—(हि. क्रि. अ.) तिरछा होना।

तिरछापन—(हि. पुं.) तिरछा होने का भाव।

तिरछी—(हि. स्त्री.) रहूर के बिना दल के दाने।

तिरछे—(हि. अव्य.) तिरछी स्थिति, गति आदि में।

तिरछौंहाँ—(हि. वि.) जो कुछ तिरछापन लिये हो।

तिरछौंहेँ—(हि. अव्य.) वक्रता से, तिरछापन लिये हुए।

तिरना—(हि. क्रि. अ.) पानी के तल के ऊपर रहना, उतराना, तैरना, परना, पार होना, मुक्त होना, उद्धार होना।

तिरनी—(हि. स्त्री.) घाघरा बाँधने की डोरी, नीवी, तिनी, घाघरे या घोती का नामि के नीचे लटकता हुआ भाग।

तिरप—(हि. स्त्री.) नाच में एक प्रकार का ताल।

तिरपट, तिरपटा—(हि. वि.) तिरछा, टेढ़ा।

तिरपन—(हि. वि.) पचास और तीन की संख्या का; (पुं.) यह संख्या, ५३।

तिरपाई—(हि. स्त्री.) तीन पायों की छोटी जैची चौकी।

तिरपाल—(हि. पुं.) छाजन में खपड़ों के नीचे विछाने के फूस या सरकंडे के लंबे पूले, मूट्ठा, रंग चढ़ा हुआ टाट।

तिरपित—(हि. वि.) देख 'तृप्त'।

तिरपौलिया—(हि. पुं.) वह बड़ा स्थान जिसमें तीन बड़े फाटक हों तथा जिनसे होकर हाथी, ऊँट, घोड़ा आदि सवारियाँ जा सकें।

तिरफला—(हि. पुं.) देखें त्रिफला; हर्षा, बहेड़ा तथा आंवला।

तिरवेनी—(हि. स्त्री.) देखें 'त्रिवेणी'।

तिरमिरा—(हि. पुं.) दृष्टि का वह दोष जो शरीर की दुर्बलता से उत्पन्न होता है, तीव्र प्रकाश में दृष्टि का स्थिर न रहना, चकाचौंध।

तिरमिराना—(हि. क्रि. अ.) तीव्र प्रकाश के कारण आँखों का न ठहरना या झपना, चौंधियाना।

तिरश्चोने—(सं. वि.) कुटिल, तिरछा, टेढ़ा;—गति—(स्त्री.) मल्ल-युद्ध की एक युक्ति।

तिरसठ—(हि. वि.) साथ और तीन संख्या का; (पुं.) साठ और तीन की संख्या, ६३।

तिरसा—(हि. पुं.) वह पाल जिसका एक छोर चौड़ा तथा दूसरा सकरा होता है।

तिरस्कर—(सं. पुं.) आच्छादक, परदा; (वि.) ढकनेवाला, ढाँपनेवाला।

तिरस्करिणी—(सं. स्त्री.) परदा, कनात, चिक, ओट, आड़।

तिरस्करी—(हि. पुं.) परदा, चिक।

तिरस्कार—(सं. पुं.) अपमान, भर्त्सना, अनादर, अपमानपूर्वक त्याग।

तिरस्कारी—(सं. वि.) अपमान करनेवाला।

तिरस्कृत—(सं. वि.) अनादृत, अपमानित किया हुआ, अनादरपूर्वक छोड़ा हुआ, छिपा हुआ; (पुं.) तन्त्रयोग का एक मन्त्र।

तिरस्क्रया—(सं. स्त्री.) तिरस्कार, अपमान, आच्छादन, वस्त्र, पहिनावा।

तिरहुत—(हि. पुं.) मिथिला प्रदेश जिसका प्राचीन नाम तीरभुक्ति था।

तिरहुतिया—(हि. वि. पुं., स्त्री.) तिरहुत सम्बन्धी, तिरहुत देश का निवासी, तिरहुत की भाषा।

तिरानवे—(हि. वि.) नव्वे और तीन की संख्या का; (पुं.) नव्वे और तीन की संख्या, ९३।

तिराना—(हि. क्रि. स.) पानी के तल पर ठहराना, उतराना, तैराना, पार करना, निस्तार करना।

तिरासी—(हि. वि.) अस्सी और तीन की संख्या का; (पुं.) अस्सी और तीन की संख्या, ८३।

तिराहा—(हि. पुं.) वह स्थान जहाँ तीन मार्ग मिले हों, तिरमुहानी।

तिरिन—(हि. पुं.) तृण, घास।

तिरिम—(सं. पुं.) एक प्रकार का घान।

तिरिया—(हि. स्त्री.) स्त्री;—चरित्तर या चरित्र—(पुं.) वह चतुराई जो स्त्रियों में

स्वाभाविक होती है।

तिरोफल—(हि. पुं.) दन्ती नामक वृक्ष।

तिरेंदा—(हि. पुं.) समुद्र में तैरता हुआ पीपा जो संकेत के लिए छिछले पानी में या जहाँ चट्टान रहती है वहाँ रखा जाता है, मछली मारने की बंसी में बँधी हुई छोटी लकड़ी जिसके डूबने से मछली फँसने का पता लगता है।

तिरोगत—(सं. वि.) अदृश्य।

तिरोध—(हि. स्त्री.) अन्तर्धान।

तिरोधान—(सं. पुं.) अन्तर्धान, अदर्शन।

तिरोघायक—(सं. पुं.) छिपानेवाला, गुप्त करनेवाला।

तिरोभाव—(सं. पुं.) अदर्शन, अन्तर्धान, आच्छादन, गुप्तभाव, गोपन, छिपाव।

तिरोभूत—(सं. वि.) अन्तर्हित, गुप्त, छिपा हुआ।

तिरोहित—(सं. वि.) अन्तर्हित, अदृश्य, छिपा हुआ, आच्छादित, ढपा हुआ।

तिरौँछा—(हि. वि.) देखें 'तिरछा', तिर्यक्।

तिर्यं—(सं. वि.) तिल का बना हुआ।

तिर्यक्—(सं. वि.) वक्र, तिरछा, टेढ़ा, आड़ा; (पुं.) पशु-पक्षी आदि जीव, पारद-धातु, पारा; (अव्य.) तिरछा झुका हुआ, तिरछे, आड़े।

तिर्यक्ता—(सं. स्त्री.) तिरछापन, टेढ़ापन।

तिर्यक्त्व—(सं. पुं.) वक्रता, तिरछापन।

तिर्यक्-प्रमाण—(सं. पुं.) विस्तार, चौड़ाई।

तिर्यक्-प्रेक्षण—(सं. पुं.) तिरछी दृष्टि से देखना।

तिर्यक्प्रेक्षी—(सं. वि.) तिरछी दृष्टि से देखनेवाला, ऐंछाताना।

तिर्यक्भेद—(सं. पुं.) दो आधारों पर रखी हुई वस्तु का बीच से टूट जाना।

तिर्यक्लोक—(सं. पुं.) जैन मत के अनुसार वह लोक जहाँ मनुष्य, देव आदि रहते हैं।

तिर्यंग, तिर्यंगीक्ष—(सं. वि.) तिरछी नजर से देखनेवाला।

तिर्यंगीश—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण का एक नाम।

तिर्यंग्ज—(सं. वि.) पशुपक्षी आदि से उत्पन्न।

तिर्यंगति—(सं. स्त्री.) वक्रगति, तिरछी चाल।

तिर्यंगमन—(सं. पुं.) वक्र गति, टेढ़ी चाल।

तिर्यंगजन—(सं. पुं.) कुटिलया, कपटी मनुष्य।

तिर्यंगजाति—(सं. स्त्री.) पशु-पक्षियों की जाति।

तिर्यंगिदश—(सं. स्त्री.) उत्तर दिशा।

तिर्यंगधार—(सं. वि.) तीव्र धारवाला।

तिर्यंगनासा—(सं. वि.) टेढ़ी नाकवाला।

तिर्यंग्यान—(सं. पुं.) केकड़ा।

तिर्यंग्योनि—(सं. स्त्री.) पशु, पक्षी, मृग,

सर्प आदि जाव ।

तिलंगा—(हि. पुं.) अंगरेजी सेना का देशी सिपाही, एक प्रकार की बड़ी कनकैया या पतंग ।

तिलंगाना—(हि. पुं.) तैलंग देश ।

तिलंगो—(हि. वि.) तैलंग देश का; (स्त्री.) एक प्रकार की कनकैया, पतंग, गुडड़ी ।

तिल—(हि. पुं.) एक पौधा जिसमें काले या सफेद दाने होते हैं और इनको पेरकर तेल निकाला जाता है, बहुत छोटा टुकड़ा या कण, शरीर पर का काले रंग का छोटा घट्टा, गोदना जो काली बिन्दी के आकार का होता है, आँख की पुतली के बीच की गोल बिन्दी; (मुहा.)—का ताड़ करना—कोई छोटी-सी बात को बहुत बढ़ा देना;—की ओट पहाड़—किसी छोटी-सी बात के अन्तर्गत बड़ी बात;—तिल—(अव्य.) थोड़ा थोड़ा करके;—घरने की जगह न होना—स्थान का सर्वथा अभाव होना;—भर—(अव्य.) थोड़ा सा ।

तिलक—(सं. पुं.) ललाट या माथा पर चन्दनादि का बनाया हुआ चिह्न जो अंगों की शोभा अथवा धार्मिकता के प्रतीक के रूप में लगाया जाता है, टीका, लोव का वृक्ष, घोड़े की एक जाति, पीपल के वृक्ष का एक भेद, पेट की तिल्ली का एक रोग, संगीत में ध्रुवक का एक भेद, पुत्राग जाति का एक वृक्ष, राज्याभिषेक, राजगद्दी, स्त्रियों के मस्तक पर धारण करने का एक आभूषण, विवाह-संबंध स्थिर करने की एक रीति, किसी ग्रन्थ की अर्थवोधक व्याख्या, एक प्रकार की छोटी कुरती; (वि.) श्रेष्ठ, शिरोमणि, किसी सम्प्रदाय का श्रेष्ठ (व्यक्ति) ।

तिलककानोद—(सं. पुं.) एक रागिनी का नाम ।

तिलकट—(सं. पुं.) तिल का चूर्ण ।

तिलकना—(हि. क्रि. अ.) ताल आदि की मिट्टी का सूखकर फटना ।

तिलकमुद्रा—(सं. पुं.) चन्दन आदि का टीका और शंख, चक्र आदि का छापा जो वैष्णव लोग लगाते हैं ।

तिलकराज—(सं. पुं.) कश्मीर के एक राजा का नाम ।

तिलकलक—(सं. पुं.) तिल का चूर्ण ।

तिलकहार—(हि. पुं.) वह मनुष्य जो कन्या की ओर से वर का तिलक चढ़ाने के लिए जाता है ।

तिलका—(सं. स्त्री.) कंठ में पहिने का

एक प्रकार का आभूषण, हार, एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में छः अक्षर होते हैं ।

तिलकालक—(सं. पुं.) शरीर पर का तिल के आकार का काला चिह्न ।

तिलकाश्रय—(सं. पुं.) ललाट, माथा ।

तिलकिट्ट—(सं. पुं.) तिल की खली ।

तिलकित—(सं. वि.) अंकित, छपा हुआ ।

तिलकी—(सं. वि.) जो तिलक लगाये हुए हो ।

तिलकुट—(हि. पुं.) तिल को कूटकर चीनी मिलाकर बनाई हुई एक प्रकार की मिठाई ।

तिलखलि—(सं. स्त्री.) तिल की खली ।

तिलखा—(हि. पुं.) एक प्रकार की चिड़िया ।

तिलचटा—(हि. पुं.) एक प्रकार का झींगुर, चपड़ा नामक कीट ।

तिलचावली—(हि. स्त्री.) तिल और चावल की खिचड़ी; (वि. स्त्री.) जो कुछ काली और सफेद हो ।

तिलचूर्ण—(सं. पुं.) तिलकुट ।

तिलच्छद—(सं. पुं.) ईहामृग, भेड़िया ।

तिलछना—(हि. क्रि. अ.) व्यग्र होना, घबड़ाना, छटपटाना ।

तिलज—(सं. पुं.) तिल का तैल ।

तिलजटा—(सं. स्त्री.) तिल की मंजरी ।

तिलड़ा—(हि. वि.) तीन लड्डोंवाला, जिसमें तीन लड्डें हों; (पुं.) एक प्रकार की नक्काशी करने की छेनी ।

तिलड़ी—(हि. स्त्री.) तीन लड्डियों की बनी हुई माला ।

तिल-तैल—(सं. पुं.) तिल्ली का तैल ।

तिलदानी—(हि. स्त्री.) कपड़े की थैली जिसमें दरजी सुई, तागा आदि रखते हैं ।

तिलनामा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का धान ।

तिलनी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का धान ।

तिलपट्टी, तिलपपड़ी—(हि. स्त्री.) खाँड़ या गुड़ में पगे हुए तिलों की पपड़ी ।

तिलपर्ण—(सं. पुं.) लाल चन्दन, तिल के पौधे का पत्ता ।

तिलपर्णिका, तिलपर्णी—(सं. स्त्री.) लाल चन्दन ।

तिलपिच्छट—(सं. पुं.) तिल की पीठी ।

तिलपिच्छक—(सं. पुं.) तिल की पीठी ।

तिलपीड़—(सं. पुं.) तलिक, तेली ।

तिलपुष्प—(सं. पुं.) तिल का फूल, व्याघ्रनाख नामक गंधद्रव्य ।

तिलपुष्पक—(सं. पुं.) बहेड़ा, तिल का फूल, नासिका, नाक ।

तिलवटा—(हि. पुं.) चौपायों के मुख का एक रोग ।

तिलवर—(हि. पुं.) एक प्रकार की चिड़िया ।

तिलभाविनी—(सं. स्त्री.) चमेली का पौधा या फूल ।

तिलभुजा—(हि. पुं.) तिलकुट ।

तिलभेद—(सं. पुं.) पोस्ते का दाना, खसखस ।

तिलमयूर—(सं. पुं.) एक प्रकार का मोर जिसके पंख पर तिल के समान काले चिह्न होते हैं ।

तिलमिल—(हि. स्त्री.) तिलमिलाहट, चकाचौंध ।

तिलमिलाना—(हि. क्रि. अ.) बेचैन होना, चकाचौंध होना ।

तिलमिलाहट—(हि. स्त्री.) तिलमिलाने की क्रिया या भाव, बेचैनी ।

तिलभोदक—(सं. पुं.) तिल का बना हुआ लड्डू ।

तिलरस—(सं. पुं.) तिल का तेल ।

तिलरा—(हि. पुं.) टाँक्री, रेखा बनाने की कसेरों की छेनी ।

तिलवट—(हि. पुं.) तिलपट्टी, तिलपपड़ी ।

तिलवान—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पौधा जिसमें सफेद या नीले फूल लगते हैं ।

तिलवा—(हि. पुं.) तिल का लड्डू ।

तिलवासिनी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का धान ।

तिलशकरी—(हि. स्त्री.) तिलपपड़ी ।

तिलशालि—(सं. पुं.) एक प्रकार का सुगन्धित धान ।

तिलस्तुद—(सं. पुं.) तिल का तेल पेरने-वाला, तेली ।

तिलस्नेह—(सं. पुं.) तिल का तेल ।

तिलस्म—(अ. पुं.) जादू, इंद्रजाल, करामात, चमत्कार ।

तिलस्मी—(अ. वि.) तिलस्म संबंधी ।

तिलहन—(हि. पुं.) वे पौधे जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है, सरसों, राई आदि ।

तिलांजलि—(सं. स्त्री.) मृतक संस्कार का एक अंग जो शव जल जाने के बाद स्नान करते समय किया जाता है, इसमें अंजली में पानी भरकर तथा तिल डालकर मृतक के नाम पर तर्पण किया जाता है ।

तिलांबु—(सं. पुं.) तिल मिला हुआ जल ।

तिला—(हि. पुं.) वह तेल या लेप जो लिङ्गन्द्रिय की शिथिलता को दूर करने के लिये लगाया जाता है ।

तिलाक—(अ. पुं.) पति-पत्नी के संबंध का विधिक विच्छेद, विवाह-विच्छेद, तलाक ।

तिलान्न—(सं. पुं.) तिल की खिचड़ी ।

तिलार्थ—(सं. पुं.) तिल का आधा भाग, बहुत छोटा परिमाण ।
 तिलावा—(हिं. पुं.) बड़ा कुआँ ।
 तिलित्स—(सं. पुं.) एक प्रकार का सर्प ।
 तिलिया—(हिं. पुं.) सरपत, सरकंडा ।
 तिली—(हिं. स्त्री.) तिल, तिल्ली ।
 तिलेती—(हिं. स्त्री.) तेलहन के पौधों को काट लेने पर बचा हुआ डंठल ।
 तिलोक—(हिं. पुं.) देखें 'त्रिलोक';
 -पति—(पुं.) त्रैलोक्यपति, विष्णु ।
 तिलोकी—(हिं. पुं.) देखें 'त्रिलोकी', उपजाति छन्द का एक भेद ।
 तिलोचन—(हिं. पुं.) देखें 'त्रिलोचन', महादेव ।
 तिलोत्तमा—(सं. स्त्री.) स्वर्ग की एक परम सुन्दरी अप्सरा जिसको ब्रह्मा ने ब्रह्माण्ड के सब उत्तम पदार्थों में से थोड़ा-थोड़ा अंश लेकर बनाया था ।
 तिलोदक—(सं. पुं.) तिल मिला हुआ जल, देखें 'तिलांजलि' ।
 तिलोरी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मैना ।
 तिलौछना—(हिं. क्रि. स.) तेल पोतकर चिकना करना ।
 तिलौछा—(हिं. वि.) जिसमें तेल लगा हो, जिसमें तेल का स्वाद हो ।
 तिलौरी—(हिं. स्त्री.) तिल मिलाकर बनायी हुई बरी ।
 तिल्य—(सं. वि.) तिल उत्पन्न करनेवाला ।
 तिल्ला—(अ. पुं.) कलावत्तू का काम, पगड़ी, दुपट्टे या साड़ी के अंचल या छोर पर किया हुआ कलावत्तू का काम ।
 तिल्ली—(हिं. स्त्री.) पेट के भीतर का एक अवयव, प्लीहा, तिल नामक अन्न ।
 तिल्व, तिल्वक—(सं. पुं.) लोघ का वृक्ष ।
 तिल्विल—(सं. पुं.) वह स्थान जहाँ पर देवता का पूजन किया जाता है ।
 तिवाड़ी, तिवारी—(हिं. पुं.) त्रिपाठी, ब्राह्मण जाति की एक उपाधि ।
 तिवास—(हिं. पुं.) तीन दिनों का काल ।
 तिवासी—(हिं. वि.) देखें 'तिवासी' ।
 तिवी—(हिं. स्त्री.) खेसारी नामक अन्न ।
 तिष्ठना—(हिं. क्रि. अ.) ठहरना ।
 तिष्ठा—(सं. स्त्री.) एक नदी का नाम जो हिमालय से निकलकर गंगा में मिली है ।
 तिष्य—(सं. पुं.) पुण्य नक्षत्र ।
 तिष्यक—(सं. पुं.) पौष मास, पूस का महीना ।
 तिष्यपुष्पा—(सं. स्त्री.) आमला ।
 तिष्या—(सं. स्त्री.) आंवला का पेड़ ।
 तिस—(हिं. सर्व.) सर्व 'ता' का एक रूप;
 -पर—(अव्य.) ऐसा होने पर भी, ऐसी स्थिति में ।

तिसना—(हिं. स्त्री.) देखें 'तृष्णा' ।
 तिसरायत—(हिं. स्त्री.) तीसरा होने का भाव ।
 तिसरत—(हिं. पुं.) एक तीसरा मनुष्य जो झगड़ा तय करता है, मध्यस्थ, तीसरे अंश का मालिक ।
 तिसाना—(हिं. क्रि. अ.) प्यासा होना ।
 तिस्रा—(सं. स्त्री.) शंखपुष्पी नामक वनस्पति ।
 तिस्स—(सं. पुं.) सम्राट् अशोक के सगे भाई का नाम ।
 तिहत्तर—(हिं. वि.) सत्तर और तीन की संख्यावाला; (पुं.) सत्तर और तीन की संख्या, ७३ ।
 तिहड़ा—(हिं. पुं.) वह स्थान जहाँ तीन सीमाएँ मिली हों ।
 तिहरा—(हिं. वि.) देखें 'तेहरा'; (पुं.) दही जमाने का मिट्टी का बरतन ।
 तिहराना—(हिं. क्रि. स.) तेहराना, तिवारा करना, तीन बार करना ।
 तिहरी—(हिं. स्त्री.) तीन लड़कों की माला, दही जमाने का मिट्टी का बरतन ।
 तिहवार—(हिं. पुं.) त्योहार, पर्व का दिन ।
 तिहवारी—(हिं. स्त्री.) त्योहारी, मिष्टान्न, फल आदि जो उत्सव के दिन सम्बन्धियों के घर भेजे जाते हैं ।
 तिहाई—(हिं. पुं.) तृतीयांश, तीसरा भाग, खेत की उपज ।
 तिहानी—(हिं. स्त्री.) वह लकड़ी जिस पर चुड़िहारे चुड़ियाँ बनाते हैं ।
 तिहायत—(हिं. पुं.) तिसरत, मध्यस्थ ।
 तिहारा, तिहारो—(हिं. सर्व.) तुम्ह, रा ।
 तिहाव—(हिं. पुं.) रोष, क्रोध, गुस्सा, झगड़ा ।
 तिहि—(हिं. सर्व.) देखें 'तेहि' ।
 तिहूँ—(हिं. वि.) तीन, तीनों ।
 तिहैया—(हिं. पुं.) तृतीयांश, तीसरा भाग ।
 ती—(हिं. स्त्री.) स्त्री, पत्नी, मनहरण छन्द, भ्रमरावली ।
 तीजुर—(हिं. पुं.) खेत की उपज की बँटाई जिसमें तीसरा भाग जमींदार लेता है ।
 तीक्षण, तीक्ष्ण—(हिं. वि.) तीक्ष्ण, तेज ।
 तीक्ष्ण—(सं. पुं.) तीव्रता, उष्णता, गरमी, विष, युद्ध, शस्त्र, मरण, समुद्र, लवण, महामारी, लोघ का पेड़, लोहा, यवधार, आद्री, अश्लेषा और मूल नक्षत्र; (वि.) उग्र, प्रचंड, तीव्र, प्रखर, तीखा, तेज धारवाला, असह्य, जो सुनने में अप्रिय हो, जिसको आलस्य न हो, चरपरे स्वाद का; -कंटक—(पुं.) घतूरा, बबूल का वृक्ष; (वि.) जिसमें तीखे काँटे हों; -कंद—(पुं.) प्याज; -क—(पुं.)

पीली सरसों; -कर्मा—(वि.) जो काम करने में दक्ष हो; -कल्क—(पुं.) घनिया; -कांता—(स्त्री.) तारादेवी; -की (पुं.) अकरकरा; -क्षीरी—(स्त्री.) वंशलोचन; -गंध—(पुं.) सहिजन का वृक्ष, लाल तुलसी, सफेद मुसली; -गंधा—(स्त्री.) राई, बच, सफेद जीरा, छोटी इलायची; -तंडुला—(स्त्री.) पिप्पली पीपल; -ता—(स्त्री.) तीव्रता; -ताप—(पुं.) महादेव, शिव; -तैल—(पुं.) सरसों का तेल, मदिरा, राल; -त्वक्—(पुं.) घनिया, व्याघ्र; -दंत—(वि.) देखें 'तीक्ष्णदंष्ट्र'; -दंष्ट्र—(वि.) जिसके दाँत तीखे हों; -दृष्टि—(स्त्री.) सूक्ष्म दृष्टि; (वि.) जिसकी दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व पर पड़ती हो; -धार—(पुं.) खड्ग, तलवार; (वि.) पैनी धारवाला; -पत्र—(पुं.) घनिया; (वि.) जिसके पत्तों में पैनी धार हो; -पुष्प—(पुं.) लवङ्ग, लौंग; (वि.) जिसके फूल में तीव्र गंध हो; -पुष्पा—(स्त्री.) केतकी, केवड़ा; -प्रिय—(पुं.) यव, जौ; -फल—(पुं.) घनिया; -फला—(स्त्री.) राई; -बुद्धि—(पुं.) प्रखर बुद्धि; (वि.) अति बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो; -मंजरी—(स्त्री.) पान का पौधा; -मूल—(पुं.) कुलंजन; -रश्मि—(पुं.) सूर्य; (वि.) जिसकी किरण तीव्र हो; -रस—(पुं.) यवधार, जवाखार; (वि.) जिसका रस बहुत तीक्ष्ण हो; -लौह—(पुं.) पक्का लोहा, इस्पात; -वल्क—(पुं.) घनिया; -वेग—(वि.) अधिक वेगयुक्त; -शूक—(पुं.) पैनी नोक या टूंड; -सारा—(स्त्री.) महुवा का पेड़, लोहा; (वि.) जिसका रस बहुत तीक्ष्ण हो ।
 तीक्ष्णांशु—(सं. पुं.) सूर्य; -तनय—(पुं.) सूर्य के पुत्र ।
 तीक्ष्णा—(सं. स्त्री.) केवाँच, जोंक, मिच, तारा देवी का एक नाम ।
 तीक्ष्णाग्नि—(सं. पुं.) जठराग्नि, अजीर्ण का रोग ।
 तीक्ष्णात्र—(सं. वि.) तीखी नोकवाला, जिसकी नोक तेज हो ।
 तीक्ष्णायस—(सं. पुं.) पक्का लोहा, इस्पात ।
 तीख—(हिं. वि.) देखें 'तीक्ष्ण', तीखा ।
 तीखन—(हिं. वि.) देखें 'तीक्ष्ण' ।
 तीखा—(हिं. वि.) जिसकी नोक या धार पैनी हो, तीक्ष्ण, तीव्र, प्रखर, प्रचंड, उग्र, क्रुद्ध स्वभाव का, उत्तम, बढ़िया, सुनने में अप्रिय ।

तीखुर, तीखुल—(हि. पुं.) तवक्षीर, हल्दी की जाति का एक प्रकार का पौधा, (इसकी जड़ से अराष्ट्र तैयार किया जाता है), देखें 'तिखुर' ।

तीछन—(हि. वि.) देखें 'तीक्षण' ।

तीज—(हि. स्त्री.) प्रत्येक पक्ष की तीसरी तिथि, भादों सुदी तीज, हरितालिका तृतीया ।

तीजा—(हि. पुं.) मुसलमानों में किसी व्यक्ति के मरने के दिन से तीसरा दिन; (वि.) तीसरा ।

तीतर—(हि. पुं.) वेग से दौड़नेवाला एक छोटा पक्षी जो एक स्थान में स्थिर नहीं रहता, तित्तिर ।

तीता—(हि. वि.) तिक्त, तीखा, चरपरे स्वाद का, कटु, कड़वा, गीला, नम; (पुं.) भूमि का गीलापन, ऊसर भूमि, ढेकी या रहट का अगला भाग ।

तीतुरी—(हि. स्त्री.) देखें 'तितली' ।

तीतुल—(हि. पुं.) देखें 'तित्तिर, तित्तिर' ।

तीन—(हि. वि.) जो दो से एक अधिक हो; (पुं.) दो और एक के योग से बनी हुई संख्या, ३; (मुहा.)—तेरह करना—पृथक् करना, छितराना;—पाँच करना—फेरवट की बात करना; न तीन में न तेरह में—जो नगण्यता उपेक्षित हो ।

तीनपान—(हि. पुं.) एक प्रकार का बहुत मोटा रस्सा ।

तीनलड़ी—(हि. स्त्री.) तीन लड़ों की माला ।

तीनि—(हि. वि.) देखें 'तीन' ।

तीपड़ा—(हि. पुं.) रेशमी वस्त्र बुनने के काम में आनेवाला एक उपकरण ।

तीमारदार—(फा. पुं.) रोगियों की सेवा करनेवाला ।

तीमारदारी—(फा. स्त्री.) रोगियों की सेवा-मुश्रूषा ।

तीय, तीया—(हि. स्त्री.) स्त्री, औरत ।

तीरंदाज—(फा. पुं.) तीर चलानेवाला ।

तीरंदाजी—(फा. स्त्री.) तीर चलाने की विद्या या क्रिया, वहादुरी ।

तीर—(सं. पुं.) नदी आदि का किनारा, तट. पास, समीप, वाण, शर, रांगा; (मुहा.)

—चलाना या फेंकना—युक्ति लगाना ।

तीरण—(सं. पुं.) करंज की लता ।

तीरथ—(हि. पुं.) देखें 'तीर्थ' ।

तीरभुक्ति—(सं. पुं.) तिरहुत देश, विदेह ।

तीरवर्ती—(सं. वि.) तट पर रहनेवाला, पास रहनेवाला, पड़ोसी ।

तीरस्थ—(सं. वि.) तीरस्थित, तीर पर रहनेवाला, (मरणासन्न व्यक्ति) जो नदी

के तीर पर लाया गया हो ।

तीरांतर—(सं. पुं.) दूसरा पार ।

तीर—(सं. पुं.) शिव, महादेव, शिव की स्तुति ।

तीर्ण—(सं. वि.) उत्तीर्ण, जो पार हो गया हो, हराया हुआ, भोगा हुआ, उल्लंघन करनेवाला ।

तीर्णपदा, तीर्णपदी—(सं. स्त्री.) तालमूली, मूसली ।

तीर्णा—(सं. स्त्री.) एक वर्षवृत्त का नाम ।

तीर्थकर—(सं. पुं.) दिगम्बर जैनों के आराध्य देवता ।

तीर्थ—(सं. पुं.) पुण्य स्थान या इसका दर्शन, ब्राह्मण, अग्नि, आगम, रोग का निदान, योनि, भग, मंत्री, गुरु, उपाध्याय, पत्रा, शास्त्र, यज्ञ, क्षेत्र, स्थान, उपाय, रजस्वला स्त्री का रज, अवतार, ऋषियों के सेवन करने का जल, हाथ के कई विशिष्ट स्थानों के नाम, राष्ट्र की अठारह सम्पत्तियाँ, पुण्यकाल, तारक, मोक्ष देनेवाला, ईश्वर, माता, पिता, अतिथि, संन्यासियों की एक उपाधि, अवसर, वैर त्यागकर परस्पर मित्रता का व्यवहार; —क—(वि.) योग्य, तीर्थयात्रा करनेवाला; (पुं.) ब्राह्मण, तीर्थङ्कर; —कर—(पुं.) विष्णु; —काक—(पुं.) वह मनुष्य जो गुरुकुल में चिरकाल नहीं रह सकता, वह मनुष्य जो तीर्थस्थान में जाकर अपनी जीविका खोजता है; —कृत्—(पुं.) जिनदेव, शास्त्रकार; —तम—(पुं.) श्रेष्ठ तीर्थ, तीर्थराज; —देव—(पुं.) शिव, महादेव; —पति—(पुं.) देखें 'तीर्थराज'; —पद—(पुं.) हरि, विष्णु; —पदीय—(पुं.) वैष्णव; —भूत—(वि.) तीर्थ स्वरूप; —यात्रा—(स्त्री.) तीर्थ (पवित्र) स्थान में स्नान, दर्शन आदि के लिए जाना, तीर्थाटन; —राज—(पुं.) प्रयाग तीर्थ; —राजि—(स्त्री.) काशी क्षेत्र; —चाक—(पुं.) केश, बाल; —चायस—(पुं.) देखें 'तीर्थकाक'; —सेनि—(स्त्री.) कातिकेय, की एक मातृका का नाम; —सेवा—(स्त्री.) तीर्थाटन, तीर्थयात्रा; —सेवी—(वि.) तीर्थयात्रा करनेवाला; (पुं.) वक पक्षी, वगुला ।

तीर्थाटन—(सं. पुं.) तीर्थयात्रा, तीर्थसेवा ।

तीर्थक—(सं. पुं.) तीर्थङ्कर, तीर्थकारी ब्राह्मण, तीर्थ का पंडा, वीरधर्म का द्वेष करनेवाला ब्राह्मण ।

तीर्थिया—(हि. पुं.) तीर्थङ्करों को मानने-

वाला जैनी ।

तीर्थ—(सं. पुं.) एक छद्र का नाम, सहपाठी ।

तीलखा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।

तीवर—(सं. पुं.) समुद्र, मछुआ, व्याघ्र, बहेलिया, एक वर्णसंकर नीच जाति ।

तीवरी—(सं. स्त्री.) तीवर जाति की स्त्री, व्याघ्रपत्नी ।

तीव्र—(सं. वि.) अत्यन्त तीक्षण, अति उष्ण, बहुत गरम, तेज, असह्य, न सहन करने योग्य, तीखा, प्रचंड, वेग-युक्त, कटु, कड़वा; (पुं.) इस्पात, लोहा, नदी, तट, रांगा, टीन, शिव, महादेव; —कंठ; —कंद—(पुं.) जमीकन्द, प्याज; —गंध—(वि.) जिसकी गन्ध तेज हो; —गंधा—(पुं.) अजवाइन; —गंधिका—(स्त्री.) देखें 'तीव्रगंधा'; —गति—(वि.) वेग की गतिवाला; (पुं.) वायु, हवा; —ज्ञानी—(वि.) बुद्धिमान्;

—ज्वाला—(स्त्री.) धव का फूल, तेज जलन; —ता—(स्त्री.) तेज, उष्णता, तीक्ष्णता; —बंध—(पुं.) तामसगुण, तमोगुण; —वेदना—(स्त्री.) अत्यधिक पीड़ा; —संताप—(पुं.) बहुत बड़ा कष्ट, रयन पक्षी; —संवेग—(पुं.) वैराग्य की भावना ।

तीव्रा—(सं. स्त्री.) कुटकी, राई, मालकंगनी, तुलसी, खुरासानी अजवाइन ।

तीवानन्द—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

तीस—(हि. वि.) बीस और दस की संख्या का; (पुं.) बीस और दस की संख्या, ३०; तीसों दिन—(अव्य.) हमेशा ।

तीसमार खाँ—(हि. पुं.) (व्यंग्योक्ति) बड़ा वीर ।

तीसरा—(हि. वि.) जो दो के बाद आता हो, संबंधित व्यक्तियों से मित्र; —पहर—(पुं.) अपराह्न ।

तीसी—(हि. स्त्री) एक प्रकार का तेलहन, अलसी ।

तुंग—(सं. पुं.) पुन्नाग वृक्ष, पर्वत, पहाड़, नारियल का पेड़, शिव, कमल, केसर, एक प्रकार का वर्षवृत्त; (वि.) उन्नत, ऊँचा, उग्र, प्रचंड, प्रधान ।

तुंगक—(सं. पुं.) एक तीर्थ का नाम ।

तुंगकूट—(सं. पुं.) ऊँची चोटी का पहाड़ ।

तुंगता—(सं. स्त्री.) उच्चता, ऊँचाई ।

तुंगत्व—(सं. पुं.) तुंगता ।

तुंगनाथ—(सं. पुं.) हिमालय पर स्थित एक शिवलिंग और तीर्थस्थान ।

तुंगनाभ—(सं. पुं.) एक प्रकार का विपैला कोड़ा ।

तुंगप्रस्थ-(सं. पुं.) रामगिरि के समीप का एक पर्वत ।
 तुंगबीज-(सं. पुं.) पारद, पारा ।
 तुंगभद्र-(सं. पुं.) मतवाला हाथी ।
 तुंगभद्रा-(सं. स्त्री.) दक्षिण भारत की एक बड़ी नदी ।
 तुंगमुख-(सं. पुं.) गंडक, गंडा ।
 तुंग-वृक्ष-(सं. पुं.) नारियल का पेड़ ।
 तुंग-शेखर-(सं. पुं.) पहाड़, पर्वत की ऊंची चोटी ।
 तुंगा-(सं. स्त्री.) शमी वृक्ष, वंशलोचन ।
 तुंगारि-(सं. पुं.) सफेद कनेर का वृक्ष ।
 तुंगनी-(सं. स्त्री.) बड़ी सतावर ।
 तुंगी-(सं. स्त्री.) हरिद्रा, हल्दी, रात्रि, रात ।
 तुंगीनास-(सं. पुं.) एक प्रकार का विषैला कीड़ा ।
 तुंगीपति-(सं. पुं.) चन्द्रमा, रजनीपति ।
 तुंगीश-(सं. पुं.) कृष्ण, सूर्य, चन्द्रमा, शिव ।
 तुंड-(सं. पुं.) मुख, मुँह, महादेव, एक राक्षस का नाम, चोच, शूथन, तलवार का अगला भाग ।
 तुंडकेरिका-(सं. स्त्री.) कपास का पौधा ।
 तुंडकेरी-(सं. स्त्री.) मुख का एक रोग जिसमें तालु फूल जाता है ।
 तुंडिका-(सं. स्त्री.) नाभि, ढोंड़ी, कुँदरु ।
 तुंडिभ-(सं. वि.) जिसकी नाभि उभरी हो ।
 तुंडिल-(सं. वि.) तोंदीला, तोंदवाला, बकवादी ।
 तुंडी-(सं. वि.) चोंचवाला, मुखवाला, शूथनवाला; (पुं.) गणेश; (स्त्री.) नाभि, ढोंड़ी ।
 तुंभ-(सं. पुं.) सरसों का पौधा ।
 तुंद-(सं. पुं.) उदर, पेट, तोंद ।
 तुंदकूपिका, तुंदकूपी-(सं. स्त्री.) ढोंड़ी ।
 तुंदवत्-(सं. वि.) तोंदवाला, तोंद निकला हुआ ।
 तुंदिक, तुंदिकर-(सं. वि.) बड़े पेटवाला, तोंदवाला ।
 तुंदिका-(सं. स्त्री.) नाभि, ढोंड़ी ।
 तुंदित-(सं. वि.) उमड़े हुए पेटवाला ।
 तुंदिभ, तुंदिल-(सं. वि.) स्यूलोदर, तोंदीला ।
 तुंदिलफला-(सं. स्त्री.) ककड़ी की लता ।
 तुंदी-(सं. स्त्री.) नाभि, ढोंड़ी ।
 तुंदैला-(हिं. वि.) लम्बोदर, तोंदवाला ।
 तुंव-(सं. पुं.) गोल लौकी, लौआ, तूवा, घनिया ।
 तुंवड़ी-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का वृक्ष, तुंवा ।
 तुंबर-(सं. पुं.) एक प्रकार का बाजा ।
 तुंबरु-(सं. पुं.) एक गन्धर्व का नाम ।

तुंबा-(सं. स्त्री.) कड़ुआ कदू, एक प्रकार का जंगली धान; (हिं. पुं.) कदू का बना हुआ जलपात्र ।
 तुंबिका-(सं. स्त्री.) कड़ुआ कदू ।
 तुंबिनी-(सं. स्त्री.) कटुतुम्बी, तितलौकी ।
 तुंबी-(सं. स्त्री.) छोटा कदू, बहेड़े का वृक्ष; -तैल-(पुं.) कदू के बीज का तेल ।
 तुंबुकी-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का चमड़ा मड़ा हुआ बाजा ।
 तुंबुर-(सं. पुं.) विन्ध्य पर्वत पर रहने वाली एक जाति ।
 तुंदरी-(सं. स्त्री.) कुक्कुरी, कुतिया, घनिया ।
 तुंदरी-वीणा-(सं. स्त्री.) तानपुरा ।
 तुंबुर-(सं. पुं.) घनिया; (पुं.) एक तपस्वी का नाम, एक गन्धर्व का नाम ।
 तु-(सं. अव्य.) निरर्थक पादपूरक शब्द, तो ।
 तुअ-(हिं. सर्व.) तुव, तव, तुम्हारा ।
 तुअना-(हिं. क्रि. अ.) गिर पड़ना, गर्भपात होना ।
 तुअर-(हिं. पुं.) अरहर, आड़की ।
 तुई-(हिं. स्त्री.) कपड़े पर बनी हुई एक प्रकार की बेल ।
 तुक-(हिं. स्त्री.) गीत या पद्य का कोई टुकड़ा या कड़ी, पादों के अन्त में होनेवाली अक्षर-मन्त्री, अन्त्यानुप्रास, पद्य के दो चरणों के अन्तिम अक्षरों का परस्पर मेल; (मुहा.)-जोड़ना या मिलाना-मद्दी कविता करना; -बंदी-(स्त्री.) मद्दी कविता करने की क्रिया, मद्दा काव्य, ऐसी कविता जिसमें काव्य के गुण न हों ।
 तुकांत-(हिं. पुं.) पद्य के अंश के चरणों के अन्तिम अक्षरों का परस्पर मेल, अन्त्यानुप्रास ।
 तुकाक्षीरी-(सं. स्त्री.) वंशलोचन ।
 तुकार-(हिं. स्त्री, पुं.) अशिष्ट संवोधन, 'तू-तू' करके बोलने की आदत ।
 तुकारना-(हिं. क्रि. स.) तू तू करके पुकारना ।
 तुक्कड़-(हिं. पुं.) वह जो मद्दी कविता बनाता हो ।
 तुख-(सं. पुं.) छिलका, भूसी, अंडे के ऊपर का छिलका ।
 तुखार-(सं. पुं.) एक प्राचीन देश का नाम, (यहाँ के घोड़े प्राचीन काल में बहुत अच्छे समझे जाते थे ।)
 तुच, तुचा-(हिं. स्त्री.) देखें 'त्वचा' ।
 तुचार-(हिं. वि.) तीखा, पैना ।
 तुच्छ-(सं. पुं.) भूसी, छिलका; (वि.) क्षुद्र, हीन, शून्य, निःसार, खोखला, अल्प, थोड़ा, ओछा; -ज्ञान-(पुं.) सामान्य

वोध; -ता-(स्त्री.) नीचता, हीनता, अल्पता, ओछापन; -त्व-(पुं.) ओछापन; -द्रुम-(पुं.) रेंड का पेड़; -धान्यक-(पुं.) भूसी, छिलका ।
 तुच्छा-(सं. स्त्री.) नील का पौधा, तुल्य, तृतिया ।
 तुच्छातितुच्छ-(सं. वि.) अत्यन्त क्षुद्र ।
 तुच्छीकृत-(सं. वि.) अपमानित, तिरस्कार किया हुआ ।
 तुजुक-(हिं. पुं.) वैभव, ऐश्वर्य ।
 तुज्य-(सं. वि.) वध करने योग्य ।
 तुश-(हिं. सर्व.) 'तू' शब्द का वह रूप जो प्रथमा और पष्ठी विभक्ति के सिवाय अन्य विभक्तियों में होता है ।
 तुशे-(हिं. सर्व.) तू का कर्म और सम्प्रदान कारकों का रूप ।
 तुट-(हिं. वि.) अल्पमात्रा में, थोड़ा-सा ।
 तुटना-(हिं. क्रि. अ., स.) सन्तुष्ट करना, प्रसन्न होना ।
 तुड़वाना-(हिं. क्रि. स.) तोड़ने का काम दूसरे से कराना ।
 तुड़ाई-(हिं. स्त्री.) तोड़ने की क्रिया या भाव, तोड़वान का शूलक ।
 तुड़ाना-(हिं. क्रि. स.) तोड़ने का काम किसी दूसरे से कराना, तुड़वाना, बन्धन छुड़ाना, सम्बन्ध तोड़ना, बड़ी मुद्रा के बदले छोटी मुद्राएँ लेना, भूनाना ।
 तुड़ि-(सं. स्त्री.) तोड़ने की क्रिया ।
 तुण, तुणिक-(सं. पुं.) तून का पेड़ ।
 तुतरा-(हिं. वि.) देखें 'तौतला' ।
 तुतराना-(हिं. क्रि. अ.) तौतलाकर बोलना ।
 तुतराँहाँ-(हिं. वि.) देख 'तौतला' ।
 तुतलाना-(हिं. क्रि. अ.) शब्दों तथा अक्षरों का शब्द उच्चारण न करना, अस्पष्ट, टूट-फूटे शब्दों में बोलना ।
 तुतरी-(सं. स्त्री.) श्रृंगी, सिगा बाजा ।
 तुतली-(हिं. वि. स्त्री.) देखें 'तौतली' ।
 तुत्य-(सं. पुं.) पत्थर, अग्नि, नील का पौधा, तृतिया न मक उपधातु, नीला-थोथा ।
 तुत्यक-(सं. पुं.) नीला थोथा ।
 तुत्या-(सं. स्त्री.) नील का पौधा, छोटी इलायची ।
 तुथ-(सं. पुं.) हत्या करनेवाला, वध करनेवाला ।
 तुदन-(सं. पुं.) पीड़ा देने की क्रिया, व्यथा, पीड़ा, चुमाने या गड़ाने की क्रिया ।
 तुन-(हिं. पुं.) एक बहुत बड़ा वृक्ष ।
 तुनतुनी-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का तुनतुन शब्द करनेवाला बाजा ।
 तुनी-(हिं. स्त्री.) तुन का वृक्ष ।

तुनीर—(हि. पुं.) देखें 'तूनीर' ।
 तुन्न—(हि. पुं.) तुन का वृक्ष, फटे हुए वस्त्र की चौर; (वि.) पीड़ित, दुःखित, फटा हुआ ।
 तुन्नवाय—(सं.पुं.) कपड़ा सीनेवाला, दरजी ।
 तुपक—(हि. स्त्री.) छोटी तोप या बंदूक, कड़ावीन ।
 तुफंग—(हि. स्त्री.) हवाई बंदूक, वह लंबी नली जिसमें मिट्टी या आटे की गोली रखकर मुख से फूंककर चलते हैं ।
 तुभना—(हि.क्रि.अ.) स्तब्ध होना, चकित हो जाना ।
 तुम—(हि.सर्व.) 'तू' शब्द का बहुवचन रूप ।
 तुमड़ी—(हि. स्त्री.) गोल कद्दू का सूखा हुआ फल, इस फल का बना हुआ पात्र, सूखे कद्दू का बना हुआ वाजा जिसको सपेरे वजाते हैं, महुअर ।
 तुमतड़ाक—(हि.पुं.) देखें 'तू-तड़ाक' ।
 तुमरा—(हि. सर्व.) देखें 'तुम्हारा' ।
 तुमल—(हि. वि.) देखें 'तुमूल' ।
 तुमाना—(हि. क्रि. स.) रूई तूनने का काम दूसरे से कराना ।
 तुमुती—(हि.स्त्री.) एक प्रकार का छोटा पक्षी ।
 तुमुर, तुमूल—(सं. पुं.) सेना का कोलाहल, लड़ाई का शब्द, मुठमेड़, क्षत्रियों की एक जाति का नाम; (वि.) प्रचंड, उग्र; -युद्ध—(पुं.) घमासान लड़ाई ।
 तुम्ह—(हि. सर्व.) देखें 'तुम' ।
 तुम्हारा—(हि. सर्व.) 'तू' का सम्बन्ध कारक का रूप ।
 तुम्हें—(हि. सर्व.) तुमको ।
 तुरंग, तुरंगक—(सं. पुं.) घोड़ा, चित्त, संधा नमक, सात की संख्या; (वि.) शीघ्र चलनेवाला ।
 तुरंगद्वेषिणी—(सं. स्त्री.) महिषी, भैंस ।
 तुरंगप्रिय—(सं. पुं.) यव, जौ ।
 तुरंगम—(सं. पुं.) घोड़ा, चित्त, एक वर्णवृत्त (वि.) शीघ्र चलनेवाला ।
 तुरंगमशाला—(सं. स्त्री.) अश्वशाला ।
 तुरंगमेघ—(सं. पुं.) अश्वमेघ ।
 तुरंगवक्त्र, तुरंगवदन—(सं. पुं.) घोड़े के मुखवाला किन्नर ।
 तुरंगारि—(सं.पुं.) करवीर, कनेर का वृक्ष ।
 तुरंगी—(सं.वि.) अश्वारोही, घुड़सवार; (स्त्री.) असगन्ध, घोड़ी ।
 तुरंत—(हि. अव्य.) अत्यन्त शीघ्र, झटपट, जल्दी से ।
 तुरंता—(हि. पुं.) गाँजा ।
 तुर—(सं. वि.) वेगवान्, जल्दी चलनेवाला; (हि.पुं.) जुलाहों की वह लकड़ी

जिस पर वे कपड़ा बुनकर लपेटते जाते हैं, वह बेलन जिसपर गोटा बीनकर लपेटा जाता है ।
 तुरई—(हि. स्त्री.) एक लता जिसके फलों की तरकारी बनाई जाती है ।
 तुरक—(हि. पुं.) देखें 'तुर्क' ।
 तुरकटा—(हि.पुं.) मुसलमान, (यह घृणा-सूचक शब्द है ।)
 तुरकाना—(हि. वि., पुं.) तुर्क के समान, तुर्क देश, तुर्कों की बस्ती ।
 तुरकानी, तुरकिन—(हि.स्त्री.) तुर्क की स्त्री ।
 तुरकिस्तान—(हि. पुं.) तुर्क देश ।
 तुरग—(सं. पुं.) घोड़ा, चित्त; (वि.) शीघ्रगामी; -गंधा—(स्त्री.) अश्व-गन्धा, असगन्ध; -दानव—(पुं.) केशी नामक दैत्य; -प्रिय—; (पुं.) यव, जौ; -रक्षक—(पुं.) अश्वरक्षक, साईस; -लोलक—(पुं.) संगीत में एक ताल का नाम ।
 तुरगानन—(सं. पुं.) एक किन्नर जाति जिनका मुख घोड़े के समान और शेष अंग मनुष्य के समान हो ।
 तुरगारोह—(सं.पुं.) अश्वारोही, घुड़सवार ।
 तुरगी—(सं. स्त्री.) असगन्ध, घोड़ी ।
 तुरगीय—(सं.वि.) अश्वसंबंधी, घोड़े का ।
 तुरगुला—(हि. पुं.) झुमका, लोलक, कर्ण-फूल ।
 तुरण—(सं. पुं.) जल्दी से जाने की क्रिया ।
 तुरण्य—(सं. पुं.) त्वरा, शीघ्रता ।
 तुरत—(हि.अव्य.) तत्क्षण, शीघ्र, जल्दी से ।
 तुरपई—(हि. स्त्री.) कपड़ा मोड़कर सीने की विधि ।
 तुरपन—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की सिलाई, लुढ़ियाना ।
 तुरपना—(हि. क्रि. स.) तुरपन की सिलाई करना, लुढ़ियाना ।
 तुरपवाना—(हि. क्रि.स.) तुरपान; तुरपन का काम दूसरे से कराना ।
 तुरपाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'तुरपवाना' ।
 तुरप—(हि. पुं.) तुरही वाजा ।
 तुरमती—(हि.स्त्री.) एक प्रकार की चिड़िया ।
 तुरमनी—(हि. स्त्री.) नारियल रेतने की रेती ।
 तुरय—(हि. पुं.) तुरंग, घोड़ा ।
 तुरया—(हि. अव्य.) शीघ्रता से, जल्दी से ।
 तुरसिला—(हि. वि.) पैना, तीखा ।
 तुरही—(हि. स्त्री.) मुंह से फूंककर वजाने का एक वाजा ।
 तुरा—(हि. स्त्री.) देखें 'त्वर' ।
 तुराई—(हि. स्त्री.) रूई भरा हुआ गद्दा ।

तुराना—(हि. क्रि. अ., स.) व्यग्र होना, धवड़ाना, देखें 'तुड़ाना' ।
 तुराय—(हि. अव्य.) आतुरता से ।
 तुरायण—(सं. पुं.) एक प्रकार का यज्ञ अनासक्ति ।
 तुरावती—(हि.वि.स्त्री.) वेगयुक्त, वेग से बहनेवाली ।
 तुरावान—(हि. वि.) वेगयुक्त, वेगवाला ।
 तुराषाद्—(सं. पुं.) इन्द्र का एक नाम ।
 तुरास—(हि. पुं.) वेग ।
 तुरि—(सं. स्त्री.) जुलाहों का काठ का एक यन्त्र ।
 तुरिया—(हि. स्त्री.) देखें 'तुरीय' ।
 तुरी—(सं. स्त्री.)-फूलों का गुच्छा, मोती की लड़ी या गुच्छा जो पगड़ी में कान के पास लटकाया जाता है; देखें 'तुरि'; (वि.) वेगयुक्त; (हि. स्त्री.) घोड़ी, लगाम; (पुं.) घुड़सवार ।
 तुरीयंत्र—(सं. पुं.) सूर्य की गति जानने का एक यन्त्र ।
 तुरीय—(सं. वि.) गतियुक्त, चतुर्थ, चौथा, उद्धार करनेवाला, तारक; (पुं.) वेदांत के अनुसार आत्मा की वह अवस्था जब वह ब्रह्म में लीन हो जाती है, समाधि की अन्तिम अवस्था ।
 तुरीयक—(सं. वि.) चतुर्थ, चौथा ।
 तुरीय वर्ण—(सं. पुं.) चतुर्थ वर्ण, शूद्र ।
 तुरूप—(हि. पुं.) ताश का एक खेल जिसमें कोई एक रंग प्रधान मान लिया जाता है ।
 तुरपना—(हि. क्रि.स.) देखें 'तुरपना' ।
 तुरष्क—(सं. पुं.) एशिया और यूरोप के मध्यस्थित एक देश का नाम, तुर्क, तुर्क जाति, इस देश का निवासी, इस देश का घोड़ा ।
 तुरही—(हि. स्त्री.) देखें 'तुरही' ।
 तुरया—(हि. स्त्री.) तुरही वाजा ।
 तुर्क—(हि.पुं.) तुरकिस्तान (का निवासी) ।
 तुर्कनी—(हि. स्त्री.) देखें 'तुरकिन' ।
 तुर्की—(हि. वि.) तुर्क देश का या संबन्धी ।
 तुर्करी—(सं. पुं.) अकुश मारने का भाला जिसकी नोक सीधी होती है ।
 तुर्य—(सं. वि.) चतुर्थ, चौथा, तुरी-यंत्र, समय जानने का एक प्राचीन यन्त्र ।
 तुर्यवाह—(सं. पुं.) चार वर्ष का पशु ।
 तुर्या—(सं. स्त्री.) वह ज्ञान जिससे मुक्ति प्राप्त होती है, तुरीया ।
 तुर्याश्रम—(सं.पुं.) चतुर्थाश्रम, संन्यासाश्रम ।
 तुर्रा—(अ. पुं.) घुंघराले वालों की लट, काकुल, कलगी, गोशवारा ।
 तुर्वन्—(सं. पुं.) शत्रु की हत्या करना ।

तुर्वश—(सं.पुं.) राजा ययाति के पुत्र का नाम ।
 तुर्वसु—(सं.पुं.) राजा ययाति का एक पुत्र जो देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था ।
 तुल—(हिं. वि.) देखें 'तुल्य', बराबर ।
 तुलना—(हिं.क्रि.अ.) तौला जाना, उद्यत होना, पूरा या समान होना, नियमित होना, तुल्य होना, तौल में बराबर होना, गाड़ी के पहिये के धुरे में घी, तेल, चर्बी आदि पोतना, साधकर शस्त्र चलाया जाना, बँधना; (सं.स्त्री.) सादृश्य, उपमा, समता, तारतम्य, मिलान, बराबरी ।
 तुलनात्मक—(सं. वि.) जिससे किसी की तुलना की जाय ।
 तुलनी—(हिं. स्त्री.) वह लोहा जो तराजू के काँटे के दोनों ओर लगा रहता है ।
 तुलबुली—(हिं. स्त्री.) शीघ्रता ।
 तुलवाई—(हिं. स्त्री.) तौलने का पारि-श्रमिक, पहिये को आँगने का शुल्क ।
 तुलवाना—(हिं. क्रि. स.) तौल कराना, गाड़ी के पहिये को आँगवाना ।
 तुलसारिणी—(सं. स्त्री.) तूण, तरकश ।
 तुलसी—(सं. स्त्री.) एक छोटा पौधा जिसको हिन्दू लोग अति पवित्र मानते हैं; -दल—(पुं.) तुलसी की पत्ती; -दाना—(हिं.पुं.) एक प्रकार का गहना; -दास—(पुं.) हिन्दी के सर्वप्रधान भक्त कवि जो सरयूपारीण ब्राह्मण थे । इनका जन्म संवत् १५८६ में राजापुर (वाँदा जिले) में हुआ था । इनके वनाये हुए रामचरित-मानस का भारतवर्ष में घर-घर में प्रचार है; -पत्र—(पुं.) तुलसी की पत्ती; -वास—(हिं. पुं.) एक प्रकार का सुगन्धित अगहनिया धान; -माला—(स्त्री.) तुलसी की माला; -वन—(पुं.) तुलसी का जंगल, वृन्दावन ।
 तुला—(सं. स्त्री.) सादृश्य, तुलना, तराजू, काँटा, मान, तौल, प्राचीन काल की एक तौल जो लगभग पाँच सेर के बराबर होती थी, अन्न आदि नापने का पात्र, सातवीं राशि जिसका आकार हाथ में तराजू लिये हुए मनुष्य के सदृश माना जाता है; -कूट—(पुं.) तौलने में कमी करनेवाला, डाँड़ी मारनेवाला; -कोटि—(स्त्री.) तराजू की डंडी के दोनों ओर जिसमें पलड़े बँधे होते हैं, अर्द्ध की संख्या; -कोष—(पुं.) तुला-परीक्षा; -दंड—(पुं.) मानदंड, तराजू की डंडी; -दान—(पुं.) एक महादान जिसमें किसी मनुष्य की तौल के बराबर द्रव्य का दान होता है; -घट—(पुं.)

तराजू की डंडी जिसमें पलड़े बँधे रहते हैं; -वर—(पुं.) तुला राशि, तराजू की डोरी; (वि.) तराजू से तौलने-वाला; -धार—(पुं.) तराजू की डोरी जिससे पलड़े बँधे रहते हैं, तुला राशि, वाराणसी निवासी एक व्याध जो सर्वदा माता-पिता की सेवा में तत्पर रहता था, वाराणसी निवासी एक वनिया जिसने महर्षि जाजलि को मोक्ष का उपदेश दिया था; -परीक्षा—(स्त्री.) प्राचीन काल में प्रचलित अभियुक्त की एक परीक्षा जिसमें उसको एक बार तराजू के पलड़े पर बैठकर मिट्टी आदि से तौलते थे, फिर उतारकर उसे दुबारा तौलते थे । यदि दुबारा तौलने में वह घट जाता था तो अभियुक्त दोषी माना जाता था; -प्रग्रह—(पुं.) तुलादंड, तराजू में बँधी हुई डोरी; -बीज—(पुं.) घूँघची के दाने जो तौलने के काम में आते हैं; -मान—(पुं.) तुला-दंड, वह मान जो तौलकर लिया जावे, वाट, वटखरा; -यंत्र—(पुं.) तराजू; -यष्टि—(स्त्री.) तराजू में बँधी हुई डाँड़ी; -सूत्र—(पुं.) तराजू की रस्सी जिससे पलड़े बँधे रहते हैं ।
 तुलाई—(हिं.स्त्री.) तौलने का भाव या काम, रुई से भरा हुआ दोहरा ओढ़ना, तुलाई ।
 तुलाना—(हिं. क्रि. अ., स.) बराबर होना, समीप आना, पूरा होना, गाड़ी के पहिये के धुरे में चिकनाई लगाना ।
 तुलावा—(हिं.पुं.) वह लकड़ी जिसके सहारे गाड़ी उठाकर पहिया निकाला जाता है और धुरे में चिकनाई पोती जाती है ।
 तुलि—(सं. स्त्री.) जुलाहे की कूँची, चित्रकार की कूँची ।
 तुलिका—(सं. स्त्री.) खंजन पक्षी, कूँची ।
 तुलित—(सं. वि.) परिमित, तुला हुआ, बराबर, समान ।
 तुलिनी—(सं. स्त्री.) शालमली, सेमल का पेड़ ।
 तुली—(सं. स्त्री.) तुलि, जुलाहे की कूँची ।
 तुल्ली—(हिं. स्त्री.) मूत्र की बँधी हुई धार जो दूर पर जा पड़ती है ।
 तुल्य—(सं. वि.) सदृश, समान, बराबर; -कोणिक—(वि.) जिस क्षेत्र के सब कोण बराबर हों; -ज्ञ—(पुं.) तुल्य जानवाला; -ता—(स्त्री.) सादृश्य, समता, बराबरी; -दर्शन—(वि.) सम-दर्शी; -पान—(पुं.) स्वजाति के लोगों के साथ मिल-जुलकर खाना-पीना;

-प्रधान व्यंग्य—(पुं.) वह व्यंग्य जिसमें वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ बराबर होते हैं;
 -बल—(वि.) सम-शक्तिवाला; (पुं.) बराबर का बल; -भावन—(पुं.) ज्योतिष में एक प्रकार की राशियों का मिलान; -मूष्य—(वि.) बराबर दाम-वाला, समान; -योगिता—(स्त्री.) एक काव्यालंकार जिसमें अनेक प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत विषयों का (उपमेयों और उपमानों का) समान धर्म बतलाया जाता है; -योगी—(वि.) समान सम्बन्ध रखनेवाला; -रूप—(वि.) एकरूप, सदृश; -वृत्ति—(वि.) एक व्यवसाय का ।
 तुल्याकृति—(सं. वि.) जो देखने में समान आकृति के हों ।
 तुव—(हिं. सर्व.) देखें 'तव' ।
 तुवर—(सं. पुं.) कसैला रस, एक प्रकार का धान, अरहर, एक प्रकार का पौधा; (वि.) कसैला, तीता, विना मूँछ-दाढ़ी का ।
 तुवरिका—(सं.स्त्री.) गोपीचन्दन, अरहर ।
 तुवरी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का धान, अरहर; -शिव—(पुं.) चकवँड का पौधा ।
 तुष—(सं. पुं.) अन्न के ऊपर का छिलका, भूसी, अंडे के ऊपर का छिलका, वहेड़े का वृक्ष; -ग्रह—(पुं.) अग्नि, आग; -ज—(वि., पुं.) भूसी से जलाई हुई (आग); -धान्य—(पुं.) छिलका सहित धान ।
 तुषांबु—(सं.पुं.) तुषोदक, एक प्रकार की काँजी ।
 तुषाग्न, तुषानल—(सं. पुं.) भूसी या करसी की आँच ।
 तुषार—(सं. पुं.) हिम, हिमकण, पाला, हिम-स्पर्श, चीनिया कपूर, हिमालय के उत्तर का एक देश, इस देश में बसने-वाली जाति; (वि.) जो स्पर्श करने में अति शीतल ज्ञात हो; -रूण—(पुं.) हिमकण; -काल—(पुं.) शीतकाल; -किरण—(पुं.) चन्द्रमा; -गिरि—(पुं.) हिमालय पर्वत; -नौर—(पुं.) कपूर; -पाषाण—(पुं.) ओला; -मूर्ति—(पुं.) हिमकर, चन्द्रमा; -रश्मि—(पुं.) चन्द्रमा तुषाराद्रि—(सं. पुं.) हिमालय-पर्वत ।
 तुषित—(सं. पुं.) एक प्रकार के गण-देवता ।
 तुषोदक—(सं. पुं.) एक प्रकार की काँजी जो छिलका समेत जब को पानी में कूट-कर बनाई जाती है ।
 तुष्ट—(सं. वि.) संतुष्ट, तृप्त, प्रसन्न; (पुं.) विष्णु; -ता—(स्त्री.) सन्तोष,

तृप्ति ।

तृष्टना—(हि. क्रि.अ.) सन्तुष्ट होना, तृप्त होना ।

तृष्टि—(सं. स्त्री.) सन्तोष, तृप्ति, प्रसन्नता, कंस के आठ भाइयों में से एक का नाम, गौरी आदि सोलह मातृकाओं में से एक शक्ति विशेष, बौद्धमत के अनुसार स्वर्ग का नाम;—कर—(वि.) सन्तोष देनेवाला;—जनक—(वि.) सन्तोष-जनक;—मान—(पुं.) कंस के भाई का नाम ।

तृष्टु—(सं.पुं.) कान में पहिनने की मणि ।

तृष्य—(सं.पुं.) शिव, महादेव ।

तुस—(सं.पुं.) तुष, भूसी ।

तुसार—(सं.पुं.) देखें 'तुषार' ।

तुसी—(हि. स्त्री.) अन्न के ऊपर का छिलका, भूसी ।

तुस्त—(सं. स्त्री.) घूल, गरदा ।

तुहमत—(फा. स्त्री.) दोष, कलंक ।

तुहमती—(फा. वि.) कलंक लगानेवाला ।

तुहर—(सं.पुं.) कुमार कार्तिकेय का एक अनुचर ।

तुहार—(हि. सर्व.) तुम्हारा ।

तुहि—(हि. सर्व.) तुझको, तुमको ।

तुहिन—(सं.पुं.) हिम, पाला, कुहरा,

ठंडक, तुपार, चन्द्रिका, चाँदनी; (वि.)

शीतल, ठंडा;—कण—(पुं.) हिमकण;

—कर—(पुं.) चन्द्रमा;—किरण—(पुं.)

चन्द्रमा;—गिरि—(पुं.) हिमालय पर्वत;

—दीवति—(पुं.) चन्द्रमा;—द्युति—

(पुं.) चन्द्रमा;—रश्मि—(पुं.) चन्द्रमा;

—शैल—(पुं.) हिमालय पर्वत ।

तुहिनांशु—(सं.पुं.) चन्द्रमा, कपूर ।

तुहिनाचल, तुहिनाद्रि—(सं.पुं.) हिमालय

पर्वत ।

तू—(हि. सर्व.) देखें 'तू' ।

तूबड़ा—(हि.पुं.) देखें 'तूवा' ।

तूवना—(हि. क्रि. स.) देखें 'तूमना' ।

तूवा—(हि.पुं.) गोल लौकी, तितलौकी,

सूखे कद्दू का बनाया हुआ जलपात्र ।

तूवी—(हि. स्त्री.) कड़वा गोल कद्दू,

सूखे कद्दू का बनाया हुआ जलपात्र ।

तू—(हि. सर्व.) यह शब्द उस व्यक्ति के

लिए प्रयुक्त होता है जिसको सम्बोधन

करके कुछ कहा जाता है; (स्त्री.)

कुत्ते को पुकारने का शब्द; (मुहा.)—तू

करना—अशिष्ट वाक्यों का प्रयोग करना ।

तूख—(हि.पुं.) देखें 'तुप', तिनका,

सीक का टुकड़ा ।

तूटना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'टूटना' ।

तूटना—(हि. क्रि. अ.) तृप्त होना, प्रसन्न होना ।

तूण—(सं.पुं.) तूणीर, तीर रखने का

चोंगा, तरकश, चामर नामक वृत्त ।

तूणक—(सं.पुं.) एक प्रकार का छन्द ।

तूणघार—(सं.पुं.) तूणघारी, तीर धारण

करनेवाला ।

तूणव—(सं.वि.) बाँसुरी के आकार का

एक प्राचीन वाजा ।

तूणी—(सं.पुं.) देखें 'तूणघार' ।

तूणी—(सं. स्त्री.) तून का वृक्ष, तूण,

तरकश, एक बात रोग जिसमें मूत्राशय

के पास पीड़ा होती है ।

तूणीक—(सं.पुं.) तून का वृक्ष ।

तूणीर—(सं.पुं.) तीर रखने का चोंगा,

तरकश ।

तूत—(फा.पुं.) एक प्रकार का पेड़ और

उसका मीठा फल ।

तूतक—(सं.पुं.) तूतिया, नीलाथोथा ।

तूतिया—(हि.पुं.) नीला थोथा ।

तूती—(फा. स्त्री.) छोटी जाति का तोता,

कनेरी चिड़िया, मैना; (मुहा.) किसी

की तूती बोलना—किसी का खूब

बोलना होना; नक्कारखाने में तूती

की आवाज—शोरगुल में धीमी आवाज,

बड़ों के आगे छोटे लोगों की बात ।

तूतुम—(सं.पुं.) शीघ्रता, वेग, जल्दी ।

तूद—(सं.पुं.) शहतूत का वृक्ष, इसके फल ।

तूदी—(सं. स्त्री.) एक प्राचीन देश का नाम ।

तून—(हि.पुं.) तून का वृक्ष, एक प्रकार

का लाल मोटा वस्त्र, तूल, देखें 'तूण' ।

तूना—(हि. क्रि. अ.) चूना, टपकना,

गिरना, खड़ा न रहना, गर्भपात होना ।

तूनीर—(हि. स्त्री.) देखें 'तूणीर' ।

तूफान—(फा.पुं.) वर्षा के साथ अंधड़,

आँधी, आपत्ति, आफत, उत्पात, झगड़ा-

वखेड़ा; (मुहा.)—उठाना या खड़ा

करना—उपद्रव मचाना ।

तूफानी—(फा. वि.) तूफान का, उत्पाती,

उपद्रवी, झगड़ा-वखेड़ा करनेवाला,

वेगयुक्त ।

तूबर—(सं.पुं.) विना सींग का बैल, विना

दाढ़ी-मूँछ का मनुष्य, कसैला रस;

(वि.) जिसमें कसैलापन हो ।

तूमड़ी—(हि. स्त्री.) देखें 'तूवी', एक

प्रकार का सूखे कद्दू का बना हुआ

वाजा जिसको सपेरे वजाते हैं ।

तूमना—(हि. क्रि. स.) रूई के रेशों को

अलग-अलग करना, उधेड़ना, घञ्जी-

घञ्जी करना, हाथों से मलना, पोल

खोलना, गुप्त बात को प्रकट करना ।

तूमा-पलटो, तूमा-फेरी—(हि. स्त्री.) हेर-

फेर, बदला-बदली ।

तूय—(सं.पुं.) जल, पानी, शीघ्रता, जल्दी ।

तूया—(हि. स्त्री.) काली सरसों ।

तूर—(सं.पुं.) नगाड़ा, तुरही नामक

वाजा; (हि.पुं.) जुलाहे की करघे

की लंबी लकड़ी जिसमें तानी लपेटी

जाती है, अरहर का पीघा ।

तूरज—(हि.पुं.) देखें 'तूर्य' ।

तूरण, तूरन—(हि. अव्य.) देखें 'तूर्ण' ।

तूरना—(हि. क्रि. स.) देखें 'तोड़ना';

(पुं.) तुरही ।

तूरी—(सं. स्त्री.) बतूरे का पीघा ।

तूर्ण—(सं. अव्य.) जल्दी से, शीघ्र,

'तुरन्त'; (पुं.) मल, विष्ठा, त्वरा,

शीघ्रता; (वि.) शीघ्रगामी ।

तूर्त—(सं. अव्य.) शीघ्र, जल्दी ।

तूर्य—(सं.पुं.) तुरही, मृदंग ।

तूर्यखंड—(सं.पुं.) एक प्रकार का ढोल ।

तूर्यजीव—(सं.वि.) जो तूर्य वजाकर

अपनी जीविका निर्वाह करता ही ।

तूल—(सं.पुं.) आकाश, शहतूत का वृक्ष,

कपास, सेमल आदि के डोंड़े के भीतर का

घूआ, रूई; (हि.पुं.) एक प्रकार का मोटा

लाल रंग का कपड़ा, गहरा लाल रंग;

(हि. वि.) तुल्य, सदृश, समान;—क-

(पुं.) तूल, कपास;—कामुक—(पुं.) रूई

घुनने का यन्त्र, घुनकी;—चाप—(पुं.)

रूई घुनन का यन्त्र, घुनकी;—ता-

(स्त्री.) समता, बराबरी;—नालिका,

—नाली—(स्त्री.) रूई की प्यूनी या

पूनी जिसमें से कातकर सूत निकाला

जाता है;—पिचु—(स्त्री.) रूई,

कपास का पीघा;—फल—(पुं.) अर्क

वृक्ष, अकवन का पेड़;—फला—(स्त्री.)

शाल्मली, सेमल का पेड़;—वृक्ष—(पुं.)

देखें 'तूलफला';—शर्करा—(स्त्री.) कपास

का बीज, विनौला;—सेचन—(पुं.) रूई

से सूत कातन का काम ।

तूलना—(हि. क्रि. अ., स.) गाड़ी के पहिये के

घुरे में चिकनाई पोतना, बराबर होना ।

तूला—(सं. स्त्री.) कपास, रूई ।

तूलि, तूलिका—(सं. स्त्री.) चित्रकार की

रंग भरने की कूची ।

तूलिका—(सं. स्त्री.) सोना ढालने का

पात्र, लालटेन आदि की बत्ती, रूई

भरा हुआ गद्दा ।

तूलिनी—(सं. स्त्री.) शाल्मली, सेमल

का वृक्ष ।

तूली—(सं. स्त्री.) नील का पीघा, चित्र-

कार की रंग भरने की कूंची, जुलाहे की कूंची ।
 तूवर—(सं.पुं.) कसैला रस; (वि.) कसैले रस का, तूवर ।
 तूवरक—(सं. पुं.) विना सींग का बैल, विना दाढ़ी-मूँछ का मनुष्य, तूवरक ।
 तूवरिका, तूवरी—(सं. स्त्री.) गोपीचन्दन, अरहर ।
 तूष्णी—(हिं. वि.) मौन, चुप ।
 तूष्णीक—(सं. वि.) मौन साधनेवाला ।
 तूष्णीभूत—(सं. वि.) मौन, चुप ।
 तूस—(हिं. पुं.) भूसी, भूसा, पहाड़ी बकरे का ऊन, तूस का जमाया हुआ कम्बल; -दान—(पुं.) कारतूस ।
 तूसना—(हिं. क्रि. अ., स.) सन्तुष्ट करना, प्रसन्न करना, तृप्त होना ।
 तुख—(सं. पुं.) जपतीफल, जायफल ।
 तुखा—(हिं. स्त्री.) देखें 'तूषा' ।
 तूजग—(हिं. वि.) देखें 'तिर्यक्', टेढ़ा ।
 तूण—(सं.पुं.) नरकट, सरपत, घास, एक प्रकार का कपूर; (मुहा.) -गहना या पकड़ना-दीनता दिखलाना; -तोड़ना-संबंध तोड़ना ।
 तूणकांड—(सं. पुं.) घास का ढेर ।
 तूणकीय—(सं. वि.) घास से उत्पन्न ।
 तूणकुंकुम—(सं. पुं.) एक प्रकार की सुगन्धित घास ।
 तूणकुटी—(सं. स्त्री.) तूण से छाई हुई मड़ई ।
 तूणकूट—(सं. पुं.) घास का ढेर ।
 तूणकूर्म—(सं. पुं.) श्वेत तुम्बी या लौकी ।
 तूणकेतकी—(सं. स्त्री.) वंशलोचन ।
 तूणकेतु, तूणकेतुक—(सं. पुं.) ताल वृक्ष, वाँस ।
 तूणकेसर—(सं. पुं.) एक प्रकार की सुगन्धित घास ।
 तूणगंधा—(सं. स्त्री.) शालपर्णी वृक्ष ।
 तूणगण—(सं. पुं.) एक प्रकार का समुद्री केकड़ा ।
 तूणगोधा—(सं. स्त्री.) छिपकली, एक प्रकार की जोंक ।
 तूणग्राही—(सं. पुं.) नीलमणि, एक प्रकार का रत्न ।
 तूणचर—(सं. पुं.) गोमेदक मणि ।
 तूणजंभू—(सं. वि.) घास चरनेवाला; (वि.) तूणतुल्य ।
 तूणजलौका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की जोंक ।
 तूणजलौका-न्याय—(सं. पुं.) दार्शनिक लोग इस वाक्य का प्रयोग तब करते हैं जब वे आत्मा का एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाने का दृष्टान्त देते हैं ।
 तूणजीवन—(सं. वि.) जो (प्राणी) घास

खाकर जीते हैं ।
 तूणता—(सं. स्त्री.) घनुष, कमान, तूणत्व ।
 तूणदुह—(सं. पुं.) बड़वानल ।
 तूणद्रुम—(सं. पुं.) नारियल, ताड़ का पेड़, सुपारी, केतकी, केवड़ा, खजूर का वृक्ष ।
 तूणधान्य—(सं. पुं.) तिन्नी का चावल, सावा ।
 तूणध्वज—(सं. पुं.) ताड़ का पेड़ ।
 तूणनिब—(सं. पुं.) चिरायता ।
 तूणप—(सं. पुं.) एक गन्धर्व का नाम ।
 तूणपति—(सं. पुं.) काला कपूर ।
 तूणपत्रिका, तूणपत्री—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की घास ।
 तूणपदी—(सं. स्त्री.) घास के समान एक औषधी ।
 तूणपाणि—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
 तूणपीड—(सं. पुं.) एक प्रकार का युद्ध ।
 तूणपुष्प—(सं. पुं.) ग्रन्थिपर्णी, गठिवन ।
 तूणपुष्पी—(सं. स्त्री.) सिन्दूरपुष्पी नामक घास ।
 तूणपूली—(सं. स्त्री.) घास की बनी हुई चटाई ।
 तूणप्राय—(सं. वि.) निकृष्ट, निकम्मा, बुरा ।
 तूणविंदु—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
 तूणवीज—(सं. पुं.) तिन्नी का घान ।
 तूणमणि—(सं. पुं.) एक रत्न का नाम ।
 तूणमत्कुण—(सं. पुं.) प्रतिभू, जाभिन ।
 तूणमय—(सं. वि.) घास का बना हुआ, तूणपूर्ण ।
 तूणमयी—(सं. वि. स्त्री.) तूण-निर्मिता, घास की बनी हुई ।
 तूणमल्लिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का चमेली का फूल ।
 तूणमुद्ग—(सं. पुं.) एक प्रकार का काला घान ।
 तूणमुस्तिका—(सं. स्त्री.) मोथा नामक घास ।
 तूणमेरु—(सं. पुं.) खद्राक्ष का पेड़ ।
 तूणराज—(सं. पुं.) नारियल या ताड़ का वृक्ष, वाँस, ऊख, खजूर ।
 तूणवृक्ष—(सं. पुं.) नारियल, ताड़, सुपारी, केतकी, खजूर ।
 तूणशय्या—(सं. स्त्री.) घास का विछौना, चटाई ।
 तूणशीत—(सं. पुं.) रोहित घास जिसमें से नींबू के समान गन्ध निकलती है ।
 तूणशीता—(सं. स्त्री.) जल पिप्पली ।
 तूणशून्य—(सं. पुं.) केवड़ा, चमेली, नांसी; (वि.) विना घास का ।
 तूणशूली—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की लता ।
 तूणशीणित—(सं. पुं.) रोहित घास ।
 तूणशीषक—(सं. पुं.) एक प्रकार का साँप ।
 तूणषट्पद—(सं. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा ।
 तूणसारा—(सं. स्त्री.) केले का पेड़ ।

तूणसह—(सं. पुं.) कुठार, कुल्हाड़ी ।
 तूणस्कद—(सं. वि.) चंचल स्वभाव का ।
 तूणहर्ष्य—(सं. पुं.) वह कुटिया जिस पर फूस की छाजन हो ।
 तूणग्नि—(सं. स्त्री.) घास-फूस की आग ।
 तूणाद्य—(सं. पुं.) पर्वत पर उगनेवाली घास ।
 तूणान्न—(सं. पुं.) तिन्नी का चावल ।
 तूणाम्ल—(सं. पुं.) नोनिया नामक घास ।
 तूणारणिन्याय—(सं. पुं.) न्यायभेद, तूण और अरणि से अग्नि उत्पन्न होने के समान अलग-अलग कारणों का संयोग; (अग्नि उत्पन्न होने में तूण और अरणि दोनों कारण हैं, परन्तु ये परस्पर निरपेक्ष ह ।)
 तूणावर्त—(सं. पुं.) चक्रवात, घूर्ण वायु, बवंडर, एक दैत्य का नाम जिसकी श्रीकृष्ण ने मारा था ।
 तूणेंद्र—(सं. पुं.) ताड़ का पेड़ ।
 तूणोत्तम—(सं. पुं.) एक सुगन्धित घास, रोहित ।
 तूणोद्भव—(सं. पुं.) तिन्नी का घान; (वि.) जो घास से उत्पन्न हुआ हो ।
 तूणोल्का—(सं. स्त्री.) घास-फूस की मशाल ।
 तूणोषध—(सं. पुं.) एक गन्ध-द्रव्य ।
 तूण्य—(सं. स्त्री.) घास-फूस का ढेर ।
 तूण्यमान—(सं. वि.) तूणयुक्त, तूण से भरा हुआ ।
 तूतीय—(सं. वि.) तीसरा ।
 तूतीयक—(सं. पुं.) तीसरे दिन आने-वाला ज्वर, तिजरा ।
 तूतीयता—(सं. स्त्री.) तूतीयत्व, तीन का भाव ।
 तूतीय-प्रकृति—(सं. पुं.) क्लीब, नपुंसक, हिजड़ा ।
 तूतियांश—(सं. पुं.) तीसरा भाग या हिस्सा ।
 तूतिया—(सं. स्त्री.) प्रत्यक् पक्ष की तीसरी तिथि, तीज, व्याकरण में करण-कारक ।
 तूतियाकृष्ट—(सं. वि.) तीन-चार बार जोता हुआ खेत ।
 तूतियाप्रकृति—(सं. पुं.) देखें 'तूतीय-प्रकृति' ।
 तूतियाश्रम—(सं. पुं.) वानप्रस्थ आश्रम ।
 तून—(हिं. पुं.) देखें 'तूण' ।
 तूपत्—(सं. पुं.) इन्द्र, चन्द्रमा, छत्र ।
 तूपति—(हिं. स्त्री.) देखें 'तृप्ति' ।
 तूपल—(सं. वि.) चंचल, तीव्र ।
 तूपला—(सं. स्त्री.) देखें 'त्रिफला' ।
 तूपित—(हिं. वि.) देखें 'तृप्त', संतुष्ट ।
 तूपिता—(हिं. स्त्री.) तृप्ति ।
 तूप्त—(सं. वि.) तृप्तियुक्त, जिसकी इच्छा पूरी हो गयी हो, प्रसन्न, अधाया हुआ ।
 तूप्ताना—(हिं. क्रि. स.) तृप्त करना ।
 तूप्ति—(सं. स्त्री.) सन्तोष, वह आनन्द और शान्ति जो इच्छा पूर्ण होने पर

प्राप्त होती है प्रसन्नता, आकांक्षा की निवृत्ति; -कर- (वि.) सन्तोष देनेवाला; -दा- (स्त्री.) गायत्री का एक भेद; -वत्- (वि.) तृप्तियुक्त; (पुं.) जल ।
 तृप- (सं. पुं.) धृत, धी, पुरोडास; (वि.) सन्तुष्ट करनेवाला ।
 तृफला- (हि. स्त्री.) त्रिफला, हर्षा, बहेड़ा और आमला-ये तीन फल ।
 तृफू- (सं. स्त्री.) एक प्रकार का सर्प ।
 तृमा- (हि. पुं.) मूसी, चोकर ।
 तृपा- (सं. स्त्री.) आकांक्षा, वासना, अभिलाषा, इच्छा, लोभ, प्यास, कामदेव की कन्या; -लु- (वि.) पिपासित, प्यासा; -वंत- (हि. वि.) प्यासा ।
 तृपाह- (सं. पुं.) जल, पानी, एक प्रकार की सौंफ ।
 तृषित- (सं. वि.) प्यासा, लोभी, लालची, अमिलाषी, इच्छायुक्त ।
 तृष्ट- (सं. वि.) तृषित, प्यासा ।
 तृष्णज- (सं. वि.) लोभी, प्यासा ।
 तृष्णा- (सं. स्त्री.) प्यास, अपूर्ण अभिलाषा, लिप्सा, लोभ, लालच; -क्षय- (पुं.) शान्ति; -घ्न- (वि.) तृष्णानाशक; (पुं.) जल ।
 तृष्णातुर- (सं. वि.) पिपासायुक्त, प्यासा ।
 तृष्णार्त- (सं. वि.) प्यास के मारे छटपटाता हुआ, प्यासा ।
 तृष्णारि- (सं. पुं.) पित्तपापड़ा ।
 तृष्णालु- (सं. वि.) लोभी, लालची, प्यासा ।
 तृसी- (हि. वि.) मूसे के रंग का, करंजई ।
 तृस्त- (सं. पुं.) धूलि, धनुष, अणु, कण ।
 त्र- (हि. प्रत्य.) से, द्वारा ।
 त्रंतरा- (हि. पुं.) वैलगाड़ी के फड़ के नीचे लगी हुई लकड़ी ।
 त्रतालीस- (हि. वि.) चालीस और तीन की संख्या का; (पुं.) चालीस और तीन की संख्या, ४३ ।
 त्रतालीसवा- (हि. वि.) जो क्रम में त्रतालीस के स्थान पर हो ।
 त्रतीस- (हि. वि.) तीस और तीन की संख्या का; (पुं.) तीस और तीन की संख्या, ३३ ।
 त्रतीसवा- (हि. वि.) जो क्रम से त्रतीस के स्थान पर हो ।
 त्रडुआ- (हि. पुं.) चीते की जाति का एक हिंसक पशु ।
 त्रडू- (हि. पुं.) एक प्रकार का जंगली वृक्ष, (इस वृक्ष की काली लकड़ी आवनूस कहलाती है ।)
 त्रे- (हि. सर्व.) वे लोग ।
 त्रैस- (हि. वि., पुं.) बीस और तीन, यह

संख्या, २३ ।
 त्रेखना- (हि. क्रि. अ.) रोष दिखलाना, क्रुद्ध होना ।
 तेग, तेगा- (फा. स्त्री. पुं.) बड़ी तलवार, कुस्ती का एक दाँव ।
 तेजःपुंज- (सं. पुं.) तेज का समूह ।
 तेज- (सं. पुं.) दीप्ति, कान्ति, चमक, प्रभाव, बल पराक्रम, वीर्य, शरीर की चमक-दमक, मखन, पित्त, अग्नि, सोना, प्रताप, साहस, सामर्थ्य, शत्रु का वह गुण जिससे उस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, वह आज्ञा जो उल्लंघित नहीं की जा सकती, चैतन्यात्मक ज्योति, लिंग-शरीर, पंच महाभूतों में से तीसरा ।
 तेजधारी- (हि. वि.) तेजस्वी, प्रतापी ।
 तेजन- (सं. पुं.) सरपत, मूँज, तेज उत्पन्न करने की क्रिया, भोजन, चटाई ।
 तेजनक- (सं. पुं.) शरतृण, सरपत ।
 तेजनाध्य- (सं. पुं.) मूँज ।
 तेजनी- (सं. स्त्री.) एक औषधि, मूर्वा लता, मालकंगनी ।
 तेजपत्र, तेजपात, तेजपत्ता- (सं. हि. पुं.) दारचीनी की जाति का एक वृक्ष जिसकी जड़ और छाल में सुगन्ध होती है ।
 तेजद्वल- (हि. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी काँटेदार वृक्ष ।
 तेजवंत, तेजवान्- (हि. वि.) तेजयुक्त, तेजस्वी, वीर्यवान्, बली, चमकीला ।
 तेजवती- (सं. वि. स्त्री.) देखें 'तेजवंत' ।
 तेजस्- (सं. पुं.) देखें 'तेज' ।
 तेजसी- (हि. वि.) तेजयुक्त, तेजस्वी ।
 तेजस्कर- (सं. वि.) तेज की वृद्धि करनेवाला ।
 तेजस्य, तेजस्व- (सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 तेजस्वत्- (सं. वि.) तेजयुक्त, तेजस्वी ।
 तेजस्वती- (सं. स्त्री.) गजपीपल, मालकंगनी ।
 तेजस्विता- (सं. स्त्री.) प्रभावशालिता, तेजस्वी होने का भाव ।
 तेजस्वित्व- (सं. पुं.) तेजस्विता, बलवान होने का भाव ।
 तेजस्विनी- (सं. स्त्री.) मालकंगनी ।
 तेजस्वी- (सं. वि.) तेजयुक्त, प्रतापी, प्रभावशाली, जिसमें तेज हो; (पुं.) इन्द्र के पुत्र का नाम ।
 तेजाव- (फा. पुं.) रासायनिक प्रक्रिया से तैयार किया हुआ द्रव अम्ल जिसमें गलाने या जलाने की बहुत घातक शक्ति होती है ।
 तेजावी- (फा. वि.) तेजाव संबंधी; -सोना- (पुं.) तेजाव से साफ किया हुआ सोना ।
 तेजारत- (हि. स्त्री.) देखें 'तिजारत' ।

तेजिका- (सं. स्त्री.) मालकंगनी ।
 तेजित- (सं. वि.) जो सान पर चढ़ाकर चोखा किया गया हो ।
 तेजिष्ठ- (सं. वि.) अत्यन्त प्रभावशाली ।
 तेजोयस्- (सं. वि.) तेजयुक्त, तेजस्वी ।
 तेजोद्वेष- (सं. पुं.) पित्त के विगड़ने से उत्पन्न रोग ।
 तेजोधातु- (सं. पुं.) पित्त ।
 तेजोवीज- (सं. पुं.) मज्जा ।
 तेजोमंडल- (सं. पुं.) चन्द्र अथवा सूर्य का मण्डल ।
 तेजोमंथ- (सं. पुं.) गनियारी का वृक्ष ।
 तेजोमय- (सं. वि.) ज्योतिर्मय, जिसमें खूब चमक हो ।
 तेजोमात्रा- (सं. स्त्री.) चमकीला भाग ।
 तेजोभूति- (सं. पुं.) सूर्य; (वि.) जिसमें अधिक तेज हो, तेज से परिपूर्ण ।
 तेजोराशि- (सं. स्त्री.) तेज का समूह ।
 तेजोरूप- (सं. पुं.) जो अग्नि या तेज जैसा हो, ब्रह्म ।
 तेजोवती- (सं. स्त्री.) गजपिप्पली, मालकंगनी ।
 तेजोविदु- (सं. पुं.) एक उपनिषद् का नाम ।
 तेजोवृक्ष- (सं. पुं.) अरणी का वृक्ष ।
 तेतना- (हि. वि.) तितना, उतना ।
 तेता- (हि. वि.) उस परिमाण का, उतना ।
 तेतिक- (हि. वि.) उतना, उस परिमाण का ।
 तेतो- (हि. वि.) देखें 'तेता' ।
 तेन- (सं. पुं.) गाना का एक अंग ।
 तेम- (सं. पुं.) आर्द्रता, गीलापन ।
 तेमन- (सं. पुं.) गीला करने की क्रिया, पका हुआ भोजन ।
 तेमनी- (सं. स्त्री.) चूल्हा ।
 तेमरु- (हि. पुं.) तेंदू का पेड़, आवनूस ।
 तेरज- (हि. पुं.) पटवारी की खतियौनी ।
 तेरस- (हि. स्त्री.) किसी पक्ष की तेरहवीं तिथि ।
 तेरह- (हि. वि.) दस और तीन का; (पुं.) दस और तीन की संख्या, १३; -वा- (वि. पुं.) जो क्रम में तेरह के स्थान में हो, तेरही ।
 तेरही- (हि. स्त्री.) किसी मनुष्य की मृत्यु के दिन से तेरहवीं तिथि जिस दिन हिंदू लोग पिण्ड-दान, ब्राह्मण भोजनादि कराते हैं और उस दिन दाह करनेवाला और मृतक व्यक्ति के परिवार के लोग शुद्ध होते हैं ।
 तेरा- (हि. सर्व.) 'तू' का संबंध कारक, मध्यम पुरुष, एक वचन रूप ।
 तेरस- (हि. पुं.) देखें 'त्योरस' ।
 तेरे- (हि. प्रत्य.) से; (सर्व.) 'तेरा' का

बहुवचन रूप ।

तेरो—(हि. सर्व.) तेरा ।

तेलंग—(सं. पुं.) एक देश, इस देश के मनुष्य ।

तेल—(हि. पुं.) किसी बीज या वनस्पति आदि से निकाला हुआ स्निग्ध पदार्थ, तैल, विवाह-काल में वर और कन्या के शरीर में हल्दी और तेल मिलाकर लगाने की रीति; (मुहा.)—उठना (चढ़ना)—तेल-हल्दी लगाने की रीति पूरी होना ।

तेलगू—(हि. स्त्री.) तैलंग देश की भाषा ।

तेलवाई—(हि. पुं.) विवाह के समय तेल-हल्दी लगाने की प्रथा ।

तेलगुर—(हि. पुं.) एक प्रकार का जंगली वृक्ष ।

तेलहंडा—(हि. पुं.) तेल रखने का बड़ा पात्र ।

तेलहंडी—(हि. स्त्री.) तेल रखने का छोटा पात्र ।

तेलहन—(हि. पुं.) वे बीज जिनमें से तेल निकाला जाता है, तिलहन, सरसों, राई ।

तेलहा—(हि. वि.) तेलयुक्त, जिसमें तेल पड़ा हो; (पुं.) एक प्रकार का अक्षर ।

तेला—(हि. पुं.) तीन दिन तक रात का उपवास ।

तेलिन—(हि. स्त्री.) तेली की स्त्री, एक प्रकार का बरसाती कीड़ा जिसके स्पर्श से शरीर में छाला पड़ जाता है ।

तेलियर—(हि. पुं.) काले रंग का एक पक्षी ।

तेलिया—(हि. वि.) जो तेल की तरह चिकना और चमकीला हो; (पुं.) काला चमकीला रंग, काले चमकीले रंग का घोड़ा, एक प्रकार का बबूल, एक प्रकार की छोटी मछली, सिंगिया नामक विष ।

तेलियाकंद—(हि. पुं.) एक प्रकार का कन्द, देखें 'तैलकंद' ।

तेलियाकत्या—(हि. पुं.) एक प्रकार का काला खैर ।

तेलियाकुमैत—(हि. पुं.) घोड़े का रंग जो अधिक कालापन लिये लाल होता है, इस रंग का घोड़ा ।

तेलियापखान—(हि. पुं.) चिकना काला पत्थर ।

तेलियापानी—(हि. पुं.) एक प्रकार का बहुत खारा पानी ।

तेलियासुरंग—(हि. पुं.) देखें 'तेलियाकुमैत' ।

तेलियासोहागा—(हि. पुं.) एक प्रकार का चिकना सोहागा ।

तेली—(हि. पुं.) हिन्दुओं में एक शूद्र जाति जो सरसों, तीसी, तिल आदि कोल्हू में पेरकर तेल निकालने का व्यवसाय

करती है; (मुहा.)—काबैल—वह मनुष्य जो सर्वदा किसी न किसी काम में पिसता रहता है ।

तेवट—(हि. स्त्री.) एक ताल का नाम जिसमें सात दीर्घ अथवा चौदह लघु मात्राएँ होती हैं ।

तेवन—(सं. पुं.) क्रीड़ा, खेल, प्रमोद-वन, आमोद-प्रमोद का स्थान; (हि. पुं.) कुपित दृष्टि, भूकुटी; (स्त्री.) एक प्रकार का लहंगा ।

तेवर—(हि. पुं.) क्रोधपूर्ण दृष्टि या भ्रू-भंगिमा; (मुहा.)—चढ़ना या बदलना—क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखना ।

तेवरी—(हि. स्त्री.) ककड़ी, खीरा, फूट ।

तेवरी—(हि. स्त्री.) देखें 'तेवर' ।

तेवहार—(हि. पुं.) देखें 'त्योहार' ।

तेवाना—(हि. क्रि. अ.) सोचना, विचारना, चिन्ता करना ।

तेह—(हि. पुं.) क्रोध, अहंकार, घमंड, प्रचंडता, तीव्रता ।

तेहरा—(हि. वि.) तीन परत किया हुआ, जिसकी एक साथ तीन प्रतियाँ हों, जो दो बार होकर या किया जाकर तीसरी बार फिर किया जाय, त्रिगुणित, तिगुना ।

तेहराना—(हि. क्रि. स.) तीन परत करना, किसी काम को तीसरी बार करना ।

तेहवार—(हि. पुं.) देखें 'त्योहार' ।

तेहा—(हि. पुं.) घमंड, अहंकार, शेखी, क्रोध ।

तेहि—(हि. सर्व.) उसको, उसे ।

तेही—(हि. वि.) अभिमानी, घमंडी, क्रोध करनेवाला ।

तै—(हि. प्रत्य.) से, ते; (सर्व.) तू ।

तैतालीस—(हि. वि., पुं.) देखें 'तैतालीस' ।

तैतीस—(हि. वि., पुं.) देखें 'तैतीस' ।

तै—(हि. वि.) जिसका निर्णय हो चुका हो, समाप्त, जो पूरा हो चुका हो;—तमाम—समाप्त ।

तैवल—(सं. पुं.) तिक्तता, चरपराहट ।

तैक्ष्य—(सं. पुं.) तीक्ष्णता, कठोरता, क्रूरता, कड़ाई, निष्ठुरता ।

तैखाना—(हि. पुं.) तहखाना ।

तैगम्य—(सं. पुं.) तिग्मता, तीक्ष्णता ।

तैजस—(सं. पुं.) कोई चमकीली वस्तु, घृत, घी, एक तीर्थ का नाम, पराक्रम शरीर की वह शक्ति जो आहार को पचाकर घातु में परिणत कर देती है; सुमति के एक पुत्र का नाम, भगवान, शक्ति, पराक्रम, कांति; वह अहंकार जो राजस अवस्था में उत्पन्न होता है; (वि.) तेज संबंधी, तेज से उत्पन्न ।

तैजसावतिनी—(सं. स्त्री.) सोना-चाँदी गलाने की धरिया ।

तैजसी—(सं. स्त्री.) गजपिप्पली ।

तैतल—(हि. पुं.) एक ऋषि का नाम ।

तैतिक्ष—(सं. वि.) क्षमाशील ।

तैतिर—(सं. पुं.) तीतर पक्षी, गैंड़ा ।

तैतिल—(सं. पुं.) गंडक, गैंड़ा, फलित ज्योतिष के ग्यारह करणों में से चौथा करण, देवता ।

तैतिर—(सं. पुं.) तीतर पक्षी, गैंड़ा ।

तैतिरि—(सं. पुं.) कृष्ण यजुर्वेद के प्रव-तंक एक ऋषि का नाम ।

तैतिरीय—(सं. पुं.) कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा, इस शाखा की उपनिषद् ।

तैतिरीयक—(सं. पुं.) तैतिरीय-शाखा को पढ़नेवाला ।

तैतिरीया—(सं. स्त्री.) यजुर्वेद की एक शाखा ।

तैतिरीयारण्यक—(सं. पुं.) तैतिरीय शाखा का आरण्यक अंग जिसमें वानप्रस्थों के लिये अनेक उपदेश लिखे हैं ।

तैनात—(हि. वि.) किसी काम पर नियुक्त ।

तैनाती—(हि. स्त्री.) नियुक्ति ।

तैमिर—(सं. पुं.) आँख का एक रोग ।

तैमिरिक—(सं. वि.) जिसको तिमिर रोग हुआ हो ।

तैया—(हि. पुं.) मिट्टी का छोटा बरतन जिसमें छोपी रंग रखते हैं ।

तैयार—(अ. वि.) खाने, पहनने या अन्य व्यवहार आदि के पूर्णतः योग्य अवस्था को प्राप्त, हर प्रकार से दुरुस्त ।

तैयारी—(हि. स्त्री.) तत्परता, समारोह, सजावट, घूमघाम, शरीर का हृष्ट-पुष्ट होना ।

तैयो—(हि. अन्व.) देखें 'तऊ', तोमी ।

तैरना—(हि. क्रि. अ.) पानी के ऊपर ठहरना, उतराना, हाथ-पैर हिलाते हुए पानी पर बहना ।

तैराई—(हि. स्त्री.) तैरने की क्रिया ।

तैराक—(हि. वि., पुं.) तैरनेवाला, जो तैरना अच्छी तरह जानता हो ।

तैराना—(हि. क्रि. सं.) तैरने का काम दूसरे से कराना, घुसाना, धँसाना ।

तैर्य—(सं. वि.) तीर्थ सम्बन्धी ।

तैर्यिक—(सं. वि.) तीर्थ से उत्पन्न होनेवाला; (पुं.) कपिल, कणाद आदि शास्त्रकार ।

तैलंग—(हि. पुं.) दक्षिण भारत के एक देश का नाम जहाँ की भाषा तैलगू कहलाती है ।

तैलंगी—(हि. पुं.) तैलंग देश का निवासी; (स्त्री.) इस देश की भाषा ।

तैल- (सं. पुं.) तेलहन से निकाला हुआ तरल पदार्थ, तेल ।
 तैलक- (सं. पुं.) थोड़ा सा तेल ।
 तैलकंद- (सं. पुं.) तेलकंद ।
 तैलकल्कज- (सं. पुं.) तैलकिट्ट, खली ।
 तैलकार- (सं. पुं.) तेल पेरनेवाला, तेली ।
 तैलकिट्ट- (सं. पुं.) तेल का मल, खली ।
 तैलकीट- (सं. पुं.) तैलिन नामक कीड़ा ।
 तैल-चौरिका, तैलचौरिका- (सं. स्त्री.) तैलकीट, तेलचट्टा ।
 तैलत्व- (सं. पुं.) तेल का स्नेहन या गुण ।
 तैलद्रोणी- (सं. स्त्री.) एक प्रकार का काठ का बड़ा पात्र जिसमें प्राचीन काल में चिकित्सा के लिये मनुष्य लिटा दिये जाते थे और इसमें औषध या तेल भर दिया जाता था ।
 तैलधान्य- (सं. पुं.) सरसों, राई, खसखस और कुसुम का बीज ।
 तैल-निर्यास- (सं. पुं.) गन्धराज ।
 तैलनी- (सं. स्त्री.) तैलकिट्ट, खली ।
 तैलपक- (सं. पुं.) तैलिन नाम का कीड़ा ।
 तैलपर्णक- (सं. पुं.) ग्रन्थिपर्णी (गठिवन) वृक्ष ।
 तैलपर्णिक- (सं. पुं.) लाल चन्दन ।
 तैलपर्णी- (सं. स्त्री.) सलई का गोंद, चन्दन, तुरुष्क नामक गन्ध-द्रव्य ।
 तैलपा- (सं. पुं.) तेल का कीड़ा ।
 तैलपायिन्, तैलपायी- (सं. पुं.) शीगुर, चपड़ा ।
 तैलपिंज- (सं. पुं.) तिल का वह वृक्ष जिसमें फल-फूल नहीं लगते ।
 तैलपिण्डक- (सं. पुं.) खली ।
 तैलफल- (सं. पुं.) इगुदी, वहेड़ा ।
 तैलभाविनी- (सं. स्त्री.) चमेली का पेड़ ।
 तैलमर्दन- (सं. पुं.) शरीर में तेल मलना ।
 तैलमाली- (सं. स्त्री.) दीया की बत्ती, पलीती ।
 तैलयंत्र- (सं. पुं.) तेल पेरने का कोलहू ।
 तैलवल्ली- (सं. स्त्री.) छोटी सतावर ।
 तैलसाधन- (सं. पुं.) शीतलचीनी ।
 तैलस्फटिक- (सं. पुं.) अम्बर नामक गन्धद्रव्य ।
 तैलांग- (सं. पुं.) वकुल, मौलसिरी का वृक्ष ।
 तैलावत- (सं. वि.) जिसमें तेल पीता हुआ हो ।
 तैलागुरु- (सं. पुं.) अगर की लकड़ी ।
 तैलाटी- (सं. स्त्री.) वरु, मिड़ ।
 तैलाधार- (सं. पुं.) तेल रखने का पात्र ।
 तैलाभ्यंग- (सं. पुं.) शरीर में तेल मलना ।
 तैलिक- (सं. पुं.) तेल पेरनेवाला, तेली;
 -यंत्र- (सं. पुं.) तेल पेरने का कोलहू ।
 तैलिन- (सं. वि.) तेल मिला हुआ, तैलयुक्त ।
 तैलिनी- (सं. स्त्री.) तैलकिट्ट, दीया की बत्ती ।
 तैलिशाला- (सं. स्त्री.) तेल पेरने का स्थान ।

तैलीन- (सं. पुं.) तिल का तेल ।
 तैष- (सं. पुं.) पौष मास, पूस का महीना ।
 तैषी- (सं. स्त्री.) पूस महीने की पूर्णिमा ।
 तैसा- (हि. वि.) उस प्रकार का, वैसा ।
 तैसे- (हि. अव्य.) उस प्रकार से, वैसे ।
 तौं- (हि. अव्य.) देखें 'त्यौं' ।
 तौंअर- (हि. पुं.) देख 'तोमर' ।
 तौंद- (हि. स्त्री.) पेट के आगे का उमड़ा हुआ भाग, पेट का फुलाव ।
 तौंदल- (हि. वि.) सोंदवाला, जिसका पेट आगे की ओर निकाला हुआ ।
 तौंदा- (हि. पुं.) तालाब का पानी निकालन का मार्ग, लक्ष्य का अभ्यास करने के लिये मिट्टी की भीत या टीला, राशि, ढेर ।
 तौंदी- (हि. स्त्री.) नामि, ढोंढी ।
 तौंदीला, तौंदेल- (हि. वि.) देखें 'तौंदैल' ।
 तौंबा- (हि. पुं.) देखें 'तुंबा' ।
 तौंबी- (हि. स्त्री.) देखें 'तुंबी' ।
 तौ- (हि. सर्व.) तेरा, तुझ, (ब्रजभाषा में प्रयुक्त होता है); (अव्य.) उस स्थिति में, तब; किसी शब्द पर जोर देने के लिये भी इस शब्द का प्रयोग होता है ।
 तौइ- (हि. पुं.) तोय, जल, पानी ।
 तौई- (हि. स्त्री.) वह पट्टी जो कुरती आदि के कमर के भाग में लगाई जाती है, चादर आदि में लगाने की गोट ।
 तौक- (सं. पुं.) अपत्य, लड़का या लड़की, छोटा बालक ।
 तौकक- (सं. पुं.) नीलकंठ पक्षी ।
 तौकरा- (हि. स्त्री.) एक प्रकार की लता ।
 तौख- (हि. पुं.) देखें 'तौष' ।
 तौखना- (हि. क्रि. स.) सन्तुष्ट करना ।
 तौटक- (सं. पुं.) एक वृत्त का नाम ।
 तौटका- (हि. पुं.) देखें 'टौटका' ।
 तौड़- (हि. पुं.) तौड़ने की क्रिया, नदी की तीव्र धारा, प्रतिकार, मारक, दही का पानी, मल्लयुद्ध की वह युक्ति जो किसी दाँव या पेंच को रूढ़ कर देती हो, वार;
 -जोड़- (पुं.) युक्ति, विधि, चाल ।
 तौड़न- (सं. पुं.) छेद करने की क्रिया, चीरने का काम, मारने का काम ।
 तौड़ना- (हि. क्रि. स.) मग्न करना, टुकड़े करना, किसी वस्तु के खड्डों को अलग करना, किसी अंग को बेकाम करना, किसी संस्था या संगठन को नष्ट करना, स्थिर न रहने देना, संबंध न निभाना, दूर करना, वादे के विरुद्ध आचरण करना, दुर्वल करना, सेंध लगाना, कुमारीत्व नष्ट करना, कोई वस्तु खरीदने में दाम घटाकर सौदा करना ।

तौड़वाना, तौड़ाना- (हि. क्रि. स.) देखें 'तुड़ाना' ।
 तौड़ाई- (हि. स्त्री.) देखें 'तुड़ाई' ।
 तौड़ी- (सं. स्त्री.) एक प्रकार की रागिनी;
 (हि. स्त्री.) एक प्रकार की सरसों ।
 तौण- (हि. पुं.) तूण, तरकश ।
 तौत- (हि. पुं.) राशि, ढेर ।
 तौतई- (हि. वि.) तौते के रंग का, धानी रंग का ।
 तौतकर- (हि. पुं.) पपीहा ।
 तौतरंगी- (हि. स्त्री.) एक प्रकार की चिड़िया ।
 तौतर, तौतरा- (हि. वि.) देखें 'तौतला' ।
 तौतराना- (हि. क्रि. अ.) देखें 'तुतलाना' ।
 तौतला- (हि. वि.) तुतलाकर बोलनेवाला, अस्पष्ट बोलनेवाला ।
 तौतलाना- (हि. क्रि. अ.) तुतलाकर बोलना, तुतलाना ।
 तौता- (फा. पुं.) सुग्गा नाम का प्रसिद्ध पक्षी, बंदूक का घोड़ा; (मुहा.) -पालना- किसी दुर्व्यसन, रोग आदि को बढ़ाना; तौते की तरह आँख फेरना या बदलना- बहुत बेमुरौबत होना ।
 तौताचम- (फा. पुं.) तौते की तरह आँख फेर लेनेवाला, बमुरौबत ।
 तौती- (हि. स्त्री.) तौते की मादा, सुग्गी, उपपत्नी, रखनी ।
 तौत्र- (सं. पुं.) जानवरों को हाँकने की छड़ी या चाबुक ।
 तौद- (सं. पुं.) व्यथा, पीड़ा; (वि.) कष्ट पहुँचानेवाला ।
 तौदन- (सं. पुं.) अंकुश, चाबुक, कोड़ा, व्यथा, पीड़ा, एक प्रकार का वृक्ष ।
 तौदपत्री- (सं. स्त्री.) एक प्रकार का खराब धान ।
 तौप- (तु. स्त्री.) बड़े-बड़े गोले दूर तक फेंकनेवाला प्रसिद्ध क्षेप्यास्त्र ।
 तौपखाना- (तु. फा. पुं.) तौप रखने का आयुधागार ।
 तौपची- (तु. फा. पु.) तौप चलानेवाला, गोलन्दाज ।
 तौपना- (हि. क्रि. स.) ढाँकना ।
 तौपा- (हि. पुं.) एक प्रकार की सिलाई ।
 तौपाना- (हि. क्रि. स.) ढाँकने का काम दूसरे से कराना ।
 तौबा- (फा. पुं.) कोई घृणित काम देखकर कहा जानेवाला निंदा या घृणासूचक शब्द; (मुहा.) -तिल्ला मचाना- चीखना, चिल्लाना; -बुलवाना- किसी को इतना तंग करना कि वह पनाह या शरण माँगने लगे ।
 तौम- (हि. पुं.) समूह, ढेर ।

तोमड़ी—(हि. स्त्री.) देखें 'तूँवड़ी' ।
तोमर—(सं.पुं.) माले की तरह का भारत का एक प्राचीन अस्त्र, बाँस की मूठ का बछार, एक प्राचीन देश का नाम, एक प्रकार का छन्द जिसमें १२ मात्राएँ होती हैं, राजस्थान का एक प्राचीन राजपूत (क्षत्रिय) राजवंश ।
तोमरघर—(सं. पुं.) तोमरघारी योद्धा ।
तोमरिका—(सं. स्त्री.) गोपीचन्दन ।
तोय—(सं. पुं.) जल, पानी, पूर्वाषाढा नक्षत्र; —**कर्म**—(पुं.) तर्पण; —**काम**—(पुं.) एक प्रकार का व्रत; —**कुम्भ**—(पुं.) शैवाल, सेवार; —**कृच्छ्र**—(पुं.) एक व्रत जिसमें जल के सिवाय कोई आहार नहीं किया जाता; —**क्रीड़ा**—(स्त्री.) जलक्रीड़ा; —**चर**—(पुं.) जलचर प्राणी; —**ज**—(पुं.) जल में उत्पन्न; —**डिब**—(पुं.) ओला, तुषार; —**द**—(पुं.) मेघ, बादल, नागरमोथा, घृत, घी; (वि.) जल देनेवाला; —**दागम**—(पुं.) वर्षाकाल, बरसात; —**घर**, —**धार**—(पुं.) मेघ, बादल, मोथा, साग; —**धारा**—(स्त्री.) जल की धारा; —**धि**—(पुं.) समुद्र, सागर; —**प्रिय**—(पुं.) लवंग, लौंग; —**पर्णी**—(स्त्री.) एक प्रकार का घान; —**पिप्पली**—(स्त्री.) जलपिप्पली; —**पुष्पी**—(स्त्री.) जलकुम्भी; —**प्रसादन**—(पुं.) निर्माली; —**फला**—(स्त्री.) तरबूज की लता, ककड़ी; —**बिब**—(पुं.) जल में की परछाई; —**मल**—(पुं.) समुद्र का फन; —**मुच्च**—(पुं.) मेघ, बादल, मोथा; —**यंत्र**—(पुं.) जलघड़ी, फौवारा; —**राज**, —**राशि**—(पुं.) समुद्र, सागर; —**बल्लिका**, —**बल्ली**—(स्त्री.) करैला; —**वृक्ष**—(पुं.) शैवाल, सेवार; —**शाला**—(स्त्री.) वारि-शाला, पौसरा; —**शूक**—(पुं.) शैवाल, सेवार; —**सपिका**—(स्त्री.) मेढक; —**सूचक**—(पुं.) ज्योतिष का वह योग जिसमें वर्षों की सूचना मिले ।
तोयात्मा—(सं. पुं.) परमेश्वर ।
तोयाधार—(सं. पुं.) जलाशय, तालाव ।
तोयेश—(सं. पुं.) वरुण, शतभिषा नक्षत्र ।
तोर—(हि.पुं.) अरहर, तोड़; (सर्व.) तेरा ।
तोरई—(हि. स्त्री.) देखें 'तुरई' ।
तोरण—(सं. पुं.) किसी घर या नगर का बाहरी फाटक, सजावट के लिये खंभों या दीवारों पर लटकाई जानेवाली मालाएँ, बन्दनवार, ग्रीवा, गला, गरदन, शिव महादेव ।
तोरन—(हि.पुं.) देखें 'तोरण' ।

तोरना—(हि. क्रि. स.) देखें 'तोड़ना' ।
तोरश्रवा—(सं.पुं.) अङ्गिरा ऋषि का नाम ।
तोरा—(हि. सर्व.) तेरा ।
तोराई—(हि. स्त्री.) देखें 'तोड़ाई' ।
तोराणा—(हि. क्रि. स.) देखें 'तुड़ाना' ।
तोरिया—(हि.स्त्री.) गोटा बनानेवालों का बलन जिस पर वे किनारी, गोटा आदि लपेटते हैं, एक प्रकार की सरसों, वह गाय या भैंस जिसका बच्चा मर गया हो ।
तोरी—(हि. स्त्री.) देखें 'तुरई' ।
तोल—(हि. स्त्री.) देखें 'तौल'; (पुं.) नाव का डौड़ा ।
तोलक—(सं.पुं.) एक तोले का परिमाण ।
तोलन—(सं.पुं.) तौलने की क्रिया, उत्तोलन, उठाने की क्रिया; (हि.स्त्री.) चाँड़ जो छत में लगाया जाता है; —**यंत्र**—(पुं.) तौलने का यंत्र, तराजू, धर्म-काँटा ।
तोलना—(हि. क्रि. स.) देखें 'तौलना' ।
तोलवाना—(हि.क्रि.स.) देखें 'तौलवाना' ।
तोला—(हि. पुं.) वारह माशे या छानवे रत्तियों की तोल, इस तौल का बाट ।
तोशक—(तु. स्त्री.) मजबूत सूती कपड़े के खोल में रूई भरकर बनाया हुआ गद्दा या बिछौना ।
तोष—(सं. पुं.) सन्तोष, तृप्ति, प्रसन्नता, आनन्द, श्रीकृष्ण के एक सखा का नाम; (वि.) अल्प, थोड़ा; —**क**—(वि.) तुष्टिकारक, सन्तुष्ट करनेवाला; —**ण**—(पुं.) तृप्ति, सन्तोष, सन्तुष्ट करने की क्रिया; (वि.) सन्तोषजनक ।
तोषना—(हि.क्रि.अ.,स.) सन्तुष्ट होना या करना, तृप्त होना ।
तोषयितव्य—(सं.वि.) सन्तुष्ट करने योग्य ।
तोषल—(सं. पुं.) कंस के एक योद्धा का नाम जो असुर था, और जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था ।
तोषित—(सं. वि.) तृप्त, सन्तुष्ट ।
तोषी—(सं. वि.) जो सन्तुष्ट करता हो, तृप्त करनेवाला ।
तोष्य—(सं. वि.) सन्तुष्ट करने योग्य ।
तोस—(हि.पुं.) देखें 'तोष' ।
तोसक—(हि.पुं.) रूईदार गद्दा, तोसक ।
तोसल—(हि.पुं.) देखें 'तोषल' ।
तोसा—(हि.पुं.) पाथेय ।
तोहफा—(अ. वि.) सुंदर, आकर्षक, मनोरम; (पुं.) उपहार, मेंट, सौगात ।
तोहरा—(हि. सर्व.) तुम्हारा ।
तोहि—(हि. सर्व.) तुझको, तुमको, तुझे ।
तौकना—(हि.क्रि.अ.) आँच से तपना ।
तौस—(हि. स्त्री.) धूप लगने से उत्पन्न

प्यास जो किसी तरह न बुझे ।
तौसना—(हि. क्रि. अ.) गरमी के कारण प्यास या ताप लगना ।
तौसा—(हि. पुं.) अधिक गरमी या ताप, बहुत प्यास ।
तौ—(हि. अव्य.) तो; (हि.क्रि.अ.) था ।
तौक्षिक—(सं. पुं.) घनु राशि ।
तौचा—(हि. पुं.) सिर पर पहिने का एक प्रकार का गहना ।
तौक्तिक—(सं. पुं.) मोती, मोती का सीप ।
तौदी—(सं. स्त्री.) घृतकुमारी, घीकुआर ।
तौन—(हि. सर्व.) वह, जो; (हि.स्त्री.) वह रस्सी जिससे गाय बूढ़ते समय बछवा उसके पैर में बाँध दिया जाता है ।
तौनी—(हि. स्त्री.) रोटी सेंकने का छोटा तवा, तई ।
तौवा—(हि. स्त्री.) देखें 'तोवा' ।
तौरि—(हि. स्त्री.) धुमटा, चक्कर ।
तौर्य—(सं. पुं.) ढोल, मजीरा आदि बाजे की ध्वनि ।
तौल—(सं.पुं.) तुला, तराजू, तुला राशि; (हि. स्त्री.) किसी पदार्थ के गुरुत्व का परिमाण, तौलन की क्रिया; —**कर**—(सं.पुं.) तौलनेवाला ।
तौलना—(हि.क्रि.स.) जोखना, तारतम्य जानना, साधना, मिलान करना, गाड़ी के पहियों को आँगना, घूरे में तेल पोतना ।
तौलवाई—(हि. स्त्री.) देखें 'तौलाई' ।
तौलाई—(हि. स्त्री.) तौलने का कार्य, तौलने का शुक ।
तौलाना, तौलवाना—(हि.क्रि.स.) तौलने का काम दूसरे से कराना ।
तौलिक—(सं. पुं.) चित्रकार, रंगसाज ।
तौलिया—(हि.पुं.,स्त्री.) शरीर पोंछने के काम में आनेवाला मोटा अँगौछा ।
तौली—(हि. स्त्री.) चौड़े मुँह का मिट्टी का पात्र; (सं.पुं.) तुला राशि वंगाल की तेली जाति ।
तौषार—(सं. पुं.) पाला तुषार; (वि.) पाला संबन्धी ।
तौसना—(हि.क्रि.अ.,स.) गरमी या ताप से व्याकुल होना या करना ।
तौहीन—(अ. स्त्री.) अनादर, अपमान, वेदज्जती ।
तौहीनी—(हि. स्त्री.) तीहीन, अनादर ।
त्यक्त—(सं. वि.) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, उच्छिष्ट; —**व्य**—(वि.) त्याग देने योग्य ।
त्यक्ता—(सं. वि., पुं.) त्याग करनेवाला, छोड़नेवाला ।

त्यजन—(सं.पुं.) त्याग, छोड़ने का काम ।
 त्यजनीय—(सं. वि.) त्याग करने योग्य ।
 त्यज्यमान—(सं.वि.) जो छोड़ दिया जाय ।
 त्याग—(सं. पुं.) उत्सर्ग, किसी पदार्थ पर से अपना अधिकार हटा लेने की क्रिया, छोड़ने का काम, दान, विवेकी पुरुष का वैराग्य उत्पन्न होने पर सब सांसारिक विषयों को छोड़ने की क्रिया, सम्बन्ध न रखने की क्रिया, कन्यादान ।
 त्यागना—(हि.क्रि.स.) त्याग देना, छोड़ना ।
 त्यागपत्र—(सं. पुं.) दानपत्र, वह पत्र जिसमें नौकरी, पद आदि के त्याग करने का उल्लेख हो, इस्तीफा ।
 त्यागवान्—(सं.वि.) त्यागी, जिसने त्याग किया हो ।
 त्यागशील—(सं.वि.) दानशील, उदार, दानी ।
 त्यागी—(सं. वि., पुं.) सांसारिक सुख को छोड़नेवाला, विरक्त, दाता, दानी, शूर ।
 त्याज्य—(सं. वि.) वर्जनीय, छोड़ने योग्य, त्याग के योग्य ।
 त्य्यं, त्य्यो—(हि. अव्य.) उसी प्रकार से, उसी तरह से, उसी समय, तत्काल ।
 त्योर(रु)स—(हि. पुं.) पिछला अथवा आगामी तीसरा वर्ष ।
 त्योरी—(हि. स्त्री.) तेवर, दृष्टि, चितवन, अवलोकन; (मुहा.)—चढ़(ढ़ा)ना या बदलना—आँखें चढ़ाना, ऐसे देखना जिससे क्रोध जान पड़े ।
 त्योहार—(हि. पुं.) धार्मिक अथवा जातीय उत्सव का दिन, पर्व का दिन ।
 त्योहारी—(हि. स्त्री.) त्योहार के उपलक्ष में छोटे लड़कों, बहू-बेटियों को अथवा नौकरों को मिठाई, धन इत्यादि देना ।
 त्य्यो—(हि. अव्य.) देखें 'त्य्यो', उसी प्रकार से ।
 त्य्योनार—(हि. पुं.) ढंग, विधि ।
 त्य्योरस—(हि. पुं.) देखें 'त्य्योरस' ।
 त्य्योहार—(हि. पुं.) देखें 'त्य्योहार', पर्व दिन ।
 त्य्योहारी—(हि. स्त्री.) देखें 'त्य्योहारी' ।
 त्रपा—(सं. स्त्री.) लज्जा, लाज, कुटिला, छिनाल स्त्री, कीर्ति, यश, कुल, वंश; (वि.) लज्जित ।
 त्रपाक—(सं. पुं.) नीच, या म्लेच्छ जाति ।
 त्रपानिरस्त—(सं. वि.) लज्जाहीन ।
 त्रपान्वित—(सं. वि.) लज्जायुक्त ।
 त्रपारंडा—(सं. स्त्री.) बेश्या, रंडी ।
 त्रपावान्—(सं. वि.) लज्जाशील ।
 त्रपित्त—(सं. वि.) लज्जित ।
 त्रपिष्ठ—(सं. वि.) अत्यन्त लज्जित ।
 त्रपु—(सं. पुं.) सीसा नामक धातु ।
 त्रपुटी—(सं. स्त्री.) छोटी इलायची ।

त्रपुल, त्रपुष—(सं. पुं.) सीसा, राँगा ।
 त्रपुषी—(सं. स्त्री.) ककड़ी, खीरा ।
 त्रय—(सं. वि., पुं.) त्रि, तीन, तीसरी संख्या ।
 त्रयी—(सं. स्त्री.) तीन वस्तुओं का समूह, ऋक् और यजु और साम—ये तीनों वेद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सोमराजी लता, भवानी, दुर्गा;—धर्म—(पुं.) वैदिक धर्म;—मय—(पुं.) सूर्य, परमेश्वर;—मुख—(पुं.) ब्राह्मण ।
 त्रयोदशी—(सं. स्त्री.) प्रत्येक पक्ष की तेरहवीं तिथि, तेरस ।
 त्रष्टा—(सं. पुं.) तष्टा, तस्त्री ।
 त्रस—(सं. पुं.) वन, जंगल ।
 त्रसन—(सं. पुं.) उद्वेग, भय, डर ।
 त्रसरेणु—(सं. पुं.) वे सूक्ष्म कण जो छोटे-छोटे छेदों में से आनेवाली धूप में नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं, परमाणु; (स्त्री.) सूर्य की एक पत्नी का नाम ।
 त्रसाना—(हि.क्रि.स.) धमकाना, डराना ।
 त्रसित—(सं. वि.) भयभीत, डरा हुआ, पीड़ित ।
 त्रसुर—(सं. वि.) भोरु, डरपोक ।
 त्रस्त—(सं. वि.) त्रासयुक्त, डरा हुआ ।
 त्राटक—(सं. पुं.) योग के षट्कर्मों में से छठा साधन ।
 त्राण—(सं. पुं.) रक्षण, रक्षा, बचाव, रक्षा करने का साधन, कवच;—कर्ता—(पुं.) रक्षक, रक्षा करनेवाला ।
 त्रात—(सं. वि.) रक्षित, रक्षा किया हुआ;—व्य—(वि.) रक्षा करने योग्य ।
 त्राता, त्रातार—(सं. हि. पुं.) रक्षक, वचानेवाला ।
 त्रापुष—(सं. पुं.) राँगे का बना हुआ पात्र ।
 त्रायमाण—(सं. वि.) रक्ष्यमाण, वचानेवाला; (स्त्री.) एक प्रकार की लता का नाम ।
 त्रायमाणा—(सं. स्त्री.) बलभद्रा नामक लता ।
 त्रायवृत्त—(सं. पुं.) एक प्रकार का शाक ।
 त्रास—(सं. पुं.) डर, भय, कष्ट ।
 त्रासक, त्रासकर—(सं. पुं.) भयभीत करनेवाला, डरानेवाला, निवारक, दूर करनेवाला ।
 त्रासदायी—(सं. वि.) भयदाता, डरानेवाला ।
 त्रासन—(सं. पुं.) भयोत्पादन, डराने का काम ।
 त्रासनीय—(सं. वि.) ताड़नीय, दंड देने योग्य ।
 त्रासना—(हि. क्रि. स.) भय दिखलाना, डराना ।
 त्रासित—(सं. वि.) त्रस्त, भयभीत, डराया हुआ ।
 त्राहि—(सं. क्रि. स.) रक्षा करो, बचाओ ।
 त्रि—(सं. वि.) तीन ।
 त्रिकंट—(सं. पुं.) गोखरू, थूहर ।
 त्रिकंटक—(सं. वि.) जिसमें तीन काँटे हों ।

त्रिफा—(सं. पुं.) तीन का समूह, रीढ़ के बीच का भाग, कटि भाग, कमर, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमुहानी, गोखरू, तीसरे दिन आनेवाला ज्वर, कुल्हे का जोड़ ।
 त्रिककुद—(सं. पुं.) त्रिकूट पर्वत, विष्णु, दस दिन में होनेवाला एक यज्ञ; (वि.) तीन सींगोंवाला ।
 त्रिककुभ—(सं. पुं.) उदान वायु जिससे छौंक और डकार आती है ।
 त्रिकग्रह—(सं. पुं.) एक प्रकार का वात रोग ।
 त्रिकट—(सं. पुं.) गोक्षुरक, गोखरू ।
 त्रिकटु—(सं. पुं.) सोंठ, मिर्च, पीपल—ये तीन कटु पदार्थ ।
 त्रिकल—(सं. पुं.) तीन मात्राओं का शब्द, दोहे का एक भेद ।
 त्रिकशूल—(सं. पुं.) एक प्रकार का वात रोग ।
 त्रिकांड—(सं. पुं.) अमरसिंह कृत कोष का नाम, निरुक्त जिसमें नैघंटुक, नैगम और दैवत नाम के तीन कांड हैं ।
 त्रिकांडी—(सं. पुं.) वह ग्रन्थ जिसमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों का वर्णन हो ।
 त्रिका—(सं. स्त्री.) कुएँ के मुख पर का वह खंभा जिसमें गराड़ी लगाई जाती है ।
 त्रिकाम, त्रिकाय—(सं. पुं.) बुद्धदेव ।
 त्रिकाल—(सं. पुं.) भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल, प्रातः, मध्याह्न तथा सन्ध्या;—ज्ञ—(पुं.) सर्वज्ञ; (वि.) भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता;—दर्शक—(वि.) जो तीनों कालों की बातें जानता हो, त्रिकालज्ञ;—दर्शी—(पुं.) ऋषि, मुनि; (वि.) भूत, भविष्य तथा वर्तमान को जाननेवाला ।
 त्रिकुटी—(सं. स्त्री.) दोनों माँहों के बीच के ऊपर का स्थान ।
 त्रिकूट—(सं. पुं.) तीन शिखरोंवाला पर्वत, वह पर्वत जिस पर लंकापुरी बसी थी; (पुं.) सेंधा नमक ।
 त्रिकूटा—(सं. स्त्री.) तान्त्रिकों की एक भैरवी ।
 त्रिकूर्चक—(सं. पुं.) शल्य-चिकित्सा के एक प्राचीन यंत्र का नाम ।
 त्रिकोण—(सं. पुं.) योनि, भग, ज्योतिष में लग्न-स्थान से पाँचवाँ और नवाँ स्थान, त्रिभुज क्षेत्र, तीन कोनोंवाला क्षेत्र, मोक्ष;—घंटा—(पुं.) एक प्रकार का वाजा;—फल—(पुं.) शृङ्गाटक, सिंघाड़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल;—भवन—(पुं.) फलित ज्योतिष में लग्न से पाँचवाँ और नवाँ स्थान;—भूमि, भंडल—(पुं., स्त्री.)

नदी के मुहाने पर बालू, आदि जमने बनी हुई त्रिकोण भूमि, डेल्टा;—मिति—(स्त्री.) वह गणित शास्त्र जिसमें त्रिकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि क्षेत्रों के क्षेत्र फल, विस्तार आदि का मान निकालने की विधियाँ बतलाई जाती हैं।

त्रिकोणा—(सं. स्त्री.) शृङ्गाटक, सिंघाड़े की लता, योनि, भग।

त्रिक्षार—(सं. पुं.) जवाखार, सज्जी-खार और सोहाग का समूह।

त्रिक्षुर—(सं. पुं.) तालमखाना।

त्रिख—(सं. पुं.) खीरा।

त्रिखा—(हि. स्त्री.) देखें 'तूषा', प्यास।

त्रिगंग—(सं. पुं.) एक तीर्थ का नाम।

त्रिगंभीर—(सं. पुं.) जिसका सत्व, स्वर और नाभि गम्भीर हो।

त्रिगण—(सं. पुं.) धर्म, अर्थ और काम, त्रिवर्ग।

त्रिगर्त—(सं. पुं.) आधुनिक जालन्धर का प्राचीन नाम।

त्रिगर्ता—(सं. स्त्री.) कामुकी स्त्री, पुंश्चली, छिनाल स्त्री।

त्रिगर्तिक—(सं. पुं.) त्रिगर्त देश।

त्रिगुण—(सं. पुं.) सत्व, रज तथा तम—इन तीनों गुणों का समूह।

त्रिगुणा—(सं. स्त्री.) दुर्गा, माया, एक तन्त्रोक्त बीज का नाम;—कृत—(वि.) तीन बार जोता हुआ (खेत)।

त्रिगुणात्मक—(सं. वि.) जिसमें सत्व, रज और तम—ये तीनों गुण हों।

त्रिगुणित—(सं. वि.) तीन बार या तिगुना किया हुआ।

त्रिगुणी—(सं. स्त्री.) विल्ववृक्ष, बेल का पेड़।

त्रिगुड—(सं. पुं.) स्त्रियों के वेश में पुरुष का नाच।

त्रिग्रामी—(सं. पुं.) तीन गाँवों का समूह।

त्रिघंटा—(सं. पुं.) वह पर्वत जहाँ विद्याधर रहते हैं।

त्रिचक्र—(सं. पुं.) अश्विनी कुमारों का रथ।

त्रिचक्षु—(सं. पुं.) त्रिनेत्र, महादेव, शिव।

त्रिजग—(सं. वि., पुं.) देखें 'तिर्यक्', पशु-पक्षी और कीड़े-मकोड़े, तीनों लोक।

त्रिजगत्—(सं. पुं.) स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल—ये तीनों लोक।

त्रिजट—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

त्रिजटा—(सं. स्त्री.) इस नाम की राक्षसी जो विभीषण की वहिन थी, (अशोक-वाटिका में वह जानकी के पास रहने के लिये रावण द्वारा नियुक्त की गई थी),

बेल का वृक्ष।

त्रिजटी—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

त्रिजड़—(हि. पुं.) कटार, तलवार, खड्ग।

त्रिजातक—(सं. पुं.) इलायची, दारचीनी और तेजपत्ता—इन तीनों औषधियों का समूह।

त्रिजामा—(हि. स्त्री.) देखें 'त्रियामा', रात्रि।

त्रिजीवा—(सं. पुं.) चाप की ज्या जो नब्बे अंशों तक फैली हो।

त्रिज्या—(सं. स्त्री.) वह रेखा जो वृत्त के केन्द्र से परिधि तक खींची गई हो, व्यासार्ध रेखा।

त्रितंत्री—(सं. स्त्री.) तीन तारों की वीणा।

त्रित—(सं. पुं.) गौतम मुनि के पुत्र का नाम।

त्रितय—(सं. पुं.) धर्म, अर्थ तथा काम—इन तीनों का समुदाय, सन्निपात ज्वर; (वि.) तीन प्रकार का।

त्रितल—(सं. वि.) तीन खंडों का (घर)।

त्रिताप—(सं. पुं.) आध्यात्मिक, आधि-भौतिक तथा आधिदैविक—इन तीनों प्रकार के दुःख।

त्रिदंड, त्रिदंडक—(सं. पुं.) संन्यास आश्रम का चिह्न, संन्यासी का वाँस के तीन दंड जो एक-दूसरे में बँधे रहते हैं।

त्रिदंडी—(सं. पुं.) त्रिदंडधारी यति, वह संन्यासी जो ज्ञानबल से मन, वचन और कर्म—इन तीनों को बश में कर सकता है, यज्ञोपवीत, जनेऊ, वैष्णव संन्यासी।

त्रिदल—(सं. पुं.) विल्व वृक्ष, बेल का पेड़।

त्रिदश—(सं. पुं.) देवता; (वि.) तीस।

त्रिदशगुरु—(सं. पुं.) देवताओं के गुरु, बृहस्पति।

त्रिदशगोप—(सं. पुं.) वीरबहूटी नामक कीड़ा।

त्रिदशत्व—(सं. पुं.) देवत्व।

त्रिदशदीर्घिका—(सं. स्त्री.) आकाश-गंगा।

त्रिदशपति—(सं. पुं.) इन्द्र, देवताओं का राजा।

त्रिदशमंजरी—(सं. स्त्री.) तुलसी।

त्रिदश-वधु—(सं. स्त्री.) अप्सरा।

त्रिदशवल्गु—(सं. पुं.) नम, आकाश।

त्रिदशाक्रुश—(सं. पुं.) इन्द्र का वज्र।

त्रिदशाचार्य—(सं. पुं.) देवताओं के गुरु, बृहस्पति।

त्रिदशाधिप—(सं. पुं.) देवताओं के राजा, इन्द्र।

त्रिदशाध्यक्ष—(सं. पुं.) विष्णु।

त्रिदशायन—(सं. पुं.) देखें 'त्रिदशाध्यक्ष'।

त्रिदशायुध—(सं. पुं.) वज्र, इन्द्र का धनुष।

त्रिदशारि—(सं. पुं.) देवताओं का शत्रु, असुर।

त्रिदशालय—(सं. पुं.) स्वर्ग, सुमेरु पर्वत।

त्रिदशावास—(सं. पुं.) देखें 'त्रिदशालय'।

त्रिदशाहार—(सं. पुं.) अमृत, सुधा।

त्रिदशेश्वर—(सं. पुं.) देवताओं के राजा, इन्द्र।

त्रिदशेश्वरी—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी।

त्रिदिनस्पृश—(सं. पुं.) वह तिथि जो तीन दिनों को स्पर्श करती है अर्थात् जिसका थोड़ा-थोड़ा अंश तीन दिनों में रहता है।

त्रिदिव—(सं. पुं.) स्वर्ग आकाश, सुख।

त्रिदिवा—(सं. स्त्री.) एला, इलायची।

त्रिदिवाघोश—(सं. पुं.) इन्द्र।

त्रिदिवेश—(सं. पुं.) देवता।

त्रिदिवोद्भवा—(सं. स्त्री.) गंगा, बड़ी इलायची।

त्रिदिवौकस—(सं. पुं.) देवता।

त्रिदृश—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

त्रिदोष—(सं. पुं.) वात, पित्त और कफ;—घ्न—(वि.) त्रिदोषनाशक;—ज—(पुं.) सन्निपात रोग।

त्रिधनी—(सं. पुं.) एक प्रकारकी रागिनी।

त्रिधर्मा—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

त्रिधा—(सं. अव्य.) तीन प्रकार से, तीन तरह से।

त्रिधातु—(सं. पुं.) सोना, चाँदी और ताँबा—ये तीन धातुएँ।

त्रिधात्व—(सं. पुं.) त्रिधा का भाव।

त्रिधामन्—(सं. पुं.) अग्नि, मृत्यु, शिव, विष्णु, तीनों धाम, स्वर्ग।

त्रिधामूर्ति—(सं. पुं.) परमेश्वर जिनके अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं।

त्रिधारक—(सं. पुं.) नागरमोथा, कसेरु की जड़।

त्रिधारस्नुही—(सं. स्त्री.) त्रिधारा, सेंहुड़।

त्रिधारा—(सं. स्त्री.) स्वर्ग, मर्त्य और पाताल—तीनों लोकों में बहनेवाली गंगा, तीन पहल्लोंवाला सेंहुड़।

त्रिधन—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

त्रिधनना—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी।

त्रिनाक—(सं. पुं.) स्वर्ग, पुण्य लोक।

त्रिनाभ—(सं. पुं.) विष्णु।

त्रिनेत्र—(सं. पुं.) शिव, महादेव, सुवर्ण, सोना;—चूड़ामणि—(पुं.) चन्द्र, चन्द्रमा।

त्रिनेत्रा—(सं. स्त्री.) वाराही कन्द।

त्रिपट—(सं. पुं.) काँच; सेंधा या काला नमक।

त्रिपत्र—(सं. पुं.) विल्व वृक्ष, बेल का पेड़।

त्रिपत्रक—(सं. पुं.) पलाश का वृक्ष।

त्रिपत्रा—(सं. स्त्री.) तिनपत्तिया घास।

त्रिपथ—(सं. पुं.) कर्म, ज्ञान और उपासना—इन तीनों मार्गों का समूह, तिमहानी।

त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी—(सं. स्त्री.) स्वर्ग, मर्त्य और पाताल-इन तीनों लोकों में बहनेवाली गंगा ।
 त्रिपद—(सं.पुं.) त्रिविक्रम, परमेश्वर, तिपाई ।
 त्रिपदा—(सं. वि.) तीन पदयुक्त, जिसमें तीन चरण हों ।
 त्रिपदिका—(सं. स्त्री.) हंसपदी लता, त्रिपादयुक्त गायत्री ।
 त्रिपदी—(सं. स्त्री.) गायत्री छन्द जिसके प्रत्येक पद में आठ अक्षर होते हैं, हाथी के पैर में बाँधने की रस्सी, तिपाई ।
 त्रिपद्म—(सं. पुं.) चन्द्रमा के दस घोड़ों में से एक ।
 त्रिपर्ण—(सं. पुं.) पलास का वृक्ष; (वि.) जिसमें तीन पत्त संलग्न हों ।
 त्रिपर्णिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की मूली, आम्ल-बल्ली ।
 त्रिपर्णी—(सं. स्त्री.) शालपर्णी, पिठवन लता ।
 त्रिपर्याय—(सं. स्त्री.) जिसके तीन पर्याय हों ।
 त्रिपाठी—(सं. पुं.) जिसने तीन वेदों का अध्ययन किया हो, त्रिवेदी, ब्राह्मणों की एक जाति, तिवारी ।
 त्रिपाण—(सं. पुं.) बल्कल ।
 त्रिपाद—(सं. पुं.) बुवार, परमेश्वर, विष्णु ।
 त्रिपादिका—(सं. स्त्री.) हंसपदी लता, लाल रंग का लज्जालु, तिपाई ।
 त्रिपापचक्र—(सं. पुं.) ज्योतिष का वर्ष भर का एक चक्र ।
 त्रिपिंड—(सं. पुं.) पार्वण श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह के उद्देश्य से दिये हुए पिण्ड ।
 त्रिपिटक—(सं. पुं.) बौद्धों का एक वर्म-ग्रन्थ जिसमें अनेक उपदेशों का संग्रह है ।
 त्रिपिव—(सं. पुं.) लंबे कानवाला बकरा ।
 त्रिपिण्डप—(सं. पुं.) स्वर्ग, आकाश ।
 त्रिपिण्डपसद—(सं. पुं.) देवता ।
 त्रिपुंड—(सं. पुं.) भस्म की तीन आड़ी रेखाओं का तिलक जो शैव लोग ललाट पर लगाते हैं ।
 त्रिपुट—(सं. पुं.) तीर, किनारा, ताला, शर, खेसारी, मोखरू का पौधा ।
 त्रिपुटक—(सं. पुं.) त्रिभुज ।
 त्रिपुटा—(सं. स्त्री.) चमेली, बेल का वृक्ष, छोटी इलायची, निसोथ, कुलथी, एक तंत्रोक्त देवी ।
 त्रिपुटी—(सं. स्त्री.) खेसारी, रेंड़ का पेड़, छोटी इलायची ।
 त्रिपुर—(सं. पुं.) मय दानव के बनाये हुए असुरों के तीन नगर; वाणासुर का एक नाम ।

त्रिपुरध्न, त्रिपुरदहन—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 त्रिपुरभरवी—(सं. स्त्री.) एक देवी का नाम ।
 त्रिपुरमल्लिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की चमेली की लता ।
 त्रिपुरांतक, त्रिपुरारि—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 त्रिपुरा—(सं. स्त्री.) कामाख्या देवी की एक मूर्ति का नाम ।
 त्रिपुरासुर—(सं. पुं.) देखें 'त्रिपुर' ।
 त्रिपुरुष—(सं. पुं.) पिता, पितामह और प्रपितामह; (वि.) जो तीन पीढ़ियों से चला आ रहा हो ।
 त्रिपुष—(सं. पुं.) ककड़ी, खीरा ।
 त्रिप्रश्न—(सं. पुं.) दिशा, देश और काल सम्बन्धी प्रश्न ।
 त्रिफला—(सं. स्त्री.) हर्रा, बहेड़ा और आमला का फल ।
 त्रिफलीकृत—(सं. वि.) वह चावल जिसकी भूसी तीन बार निकाली गई हो ।
 त्रिवली—(सं. स्त्री.) पेट पर पड़नेवाले तीन बल या रेखाएँ ।
 त्रिवलीक—(सं. पुं.) वायु, मलद्वार, गुदा ।
 त्रिवाहु—(सं. पुं.) रुद्र के एक अनुचर का नाम ।
 त्रिभंग—(सं. वि.) जिसमें तीन स्थानों पर बल पड़े हों, श्रीकृष्ण की वह मूर्ति जिसमें शीवा, कटि और जानु कुछ वक्र भाव से बने होते हैं ।
 त्रिभंगी—(सं. पुं.) एक मात्रिक छन्द का नाम जिसके प्रत्येक चरण में बत्तीस मात्राएँ होती हैं, एक राग का नाम; (वि.) जो तीन स्थानों में टेढ़ा हो ।
 त्रिभ—(सं. पुं.) तीन राशियों का समुदाय, लग्नादि तीनों राशियाँ ।
 त्रिभजीवा—(सं. स्त्री.) अर्ध-व्यास, त्रिज्या ।
 त्रिभद्र—(सं. पुं.) स्त्रीप्रसंग, रतिक्रिया ।
 त्रिभाग—(सं. पुं.) तृतीय भाग, तीसरा हिस्सा ।
 त्रिभुक्ति—(सं. स्त्री.) तिरहुत, मिथिला देश ।
 त्रिभुज—(सं. पुं.) तीन भुजाओं का क्षेत्र, वह समतल जो तीन रेखाओं से घिरा हो ।
 त्रिभुवन—(सं. पुं.) त्रिलोक अर्थात् स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल; -सुदरी—(स्त्री.) दुर्गा, पार्वती ।
 त्रिभूम—(सं. पुं.) तीन खंडोंवाला (ति-मंजिला) घर ।
 त्रिमंडला—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की मकड़ी ।
 त्रिमद—(सं. पुं.) परिवार, विद्या और धन—इन तीन कारणों से उत्पन्न अभिमान, मोथा, चीता और बायविडंग—इन तीनों का समुदाय ।

त्रिमघु, त्रिमधुर—(सं. पुं.) घी, चीनी और शहद का समुदाय, ऋग्वेद का एक यज्ञ ।
 त्रिमात्रिक—(सं. वि.) जिसमें तीन मात्राएँ हों, प्लुत ।
 त्रिमार्ग—(सं. पुं.) तिमहानी, जहाँ तीन मार्ग मिलते हों ।
 त्रिमार्गगा—(सं. स्त्री.) गंगा ।
 त्रिमार्गगामिनी—(सं. स्त्री.) गंगा नदी ।
 त्रिमार्गा—(सं. स्त्री.) गंगा, तिमहानी ।
 त्रिमकुट—(सं. पुं.) जिस पहाड़ में तीन शिखर हों ।
 त्रिमुखा—(सं. स्त्री.) माया देवी ।
 त्रिमुखी—(सं. स्त्री.) बुद्ध की माता, माया देवी ।
 त्रिमुनि—(सं. पुं.) पाणिनी, कात्यायन और पतंजलि—ये तीन मुनि ।
 त्रिमूर्ति—(सं. पुं.) ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीन देवता, सूर्य, ब्रह्मा की एक शक्ति ।
 त्रिमूर्ध—(सं. वि.) जिसके तीन मस्तक हों ।
 त्रिपर्वक—(सं. पुं.) त्रिनेत्र, महादेव ।
 त्रिपव—(सं. पुं.) एक परिमाण जो तीन पव के बराबर होता है ।
 त्रिपिण्ड—(सं. स्त्री.) पितृपापड़ा ।
 त्रिया—(हिं. स्त्री.) स्त्री, औरत; -चरित्र—(पुं.) वे छल-कपट जो स्त्रियों में स्वाभाविक होते हैं ।
 त्रियामक—(सं. पुं.) पाप ।
 त्रियामा—(सं. स्त्री.) निशा, रात्रि, हरिद्रा, हलदी, यमुना नदी, नील का पौधा ।
 त्रियुग—(सं. पुं.) विष्णु, वसन्त आदि तीन ऋतुएँ; सतयुग, त्रेता और द्वापर—ये तीनों युग ।
 त्रियूह—(सं. पुं.) सफेद रंग का घोड़ा ।
 त्रिरात्रि—(सं. पुं.) एक प्रकार का व्रत जिसमें तीन दिनों तक उपवास करना पड़ता है ।
 त्रिरूप—(सं. पुं.) अश्वमेध का घोड़ा ।
 त्रिरेख—(सं. पुं.) शंख; (वि.) तीन रेखाओं से युक्त ।
 त्रिलघु—(सं. वि.) जिसकी गरदन, जाँघ और लिंगेन्द्रिय छोटी हो; (ये शुभ लक्षण हैं ।)
 त्रिलवण—(सं. पुं.) सेंधा, सांभर और साँचर नमक ।
 त्रिलिंग—(सं. पुं.) अहंकार, गर्व, तैलंग देश ।
 त्रिलोक—(सं. पुं.) त्रिभुवन; स्वर्ग, मर्त्य और पाताल—ये तीनों लोक; -नाथ—परमेश्वर; -पति—(पुं.) परमेश्वर ।
 त्रिलोकी—(सं. स्त्री.) देखें 'त्रिलोक' ।
 त्रिलोकीनाथ—(सं. पुं.) परमेश्वर, ईश्वर ।

त्रिलोकेश—(सं. पुं.) परमेश्वर, सूर्य ।
 त्रिलोचन—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 त्रिलोचना, त्रिलोचनी—(सं. स्त्री.) दुर्गा, भगवती ।
 त्रिलोह—(सं.पुं.) सोना, चाँदी और ताँवा ।
 त्रिवण—(सं.पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग ।
 त्रिवणी—(हिं. स्त्री.) एक संकर रागिनी ।
 त्रिवत्स—(सं.पुं.) तीन वर्ष का बालक ।
 त्रिवर्ग—(सं. पुं.) धर्म, अर्थ और काम, त्रिफला, त्रिकटु; वृद्धि, स्थिति और क्षय, सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—ये प्रधान जातियाँ, सुनीति, गायत्री ।
 त्रिवर्ण—(सं. पुं.) तीन प्रधान रंग—काला, लाल और पीला रंग ।
 त्रिवर्णक—(सं. पुं.) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—ये तीन प्रधान जातियाँ, त्रिफला, गोखरू, त्रिकटु ।
 त्रिवर्णा—(सं. स्त्री.) जंगली कपास ।
 त्रिवर्त—(सं. पुं.) एक प्रकार का मोती ।
 त्रिवर्त्म—(सं. पुं.) त्रिपथ, तिमूहानी ।
 त्रिवर्त्मगा—(सं. स्त्री.) त्रिपथगा, गंगा ।
 त्रिवर्ष—(सं. वि.) तीन वर्ष का जीव ।
 त्रिवर्षा—(सं. स्त्री.) तीन वर्ष की गाय ।
 त्रिवर्षीय—(सं. वि.) तीन वर्ष का, तीन वर्ष ठहरनेवाला ।
 त्रिवल्ली—(सं. स्त्री.) इंदीवर, नील कमल ।
 त्रिवल्य—(सं. पुं.) एक प्रकार का चमड़ा मढ़ा हुआ बाजा ।
 त्रिवार—(सं. अव्य.) तीन बार; (पुं.) गरुड़ के एक पुत्र का नाम ।
 त्रिविक्रम—(सं. पुं.) विष्णु, वामन अवतार ।
 त्रिविद—(सं. वि.) तीनों वेदों को जानने-वाला ।
 त्रिविद्य—(सं. पुं.) तीनों वेदों को जानने-वाला द्विज ।
 त्रिविध—(सं. वि.) तीन प्रकार का ।
 त्रिविष्टय—(सं. पुं.) स्वर्ग, त्रिवृत देश ।
 त्रिविस्तीर्ण—(सं. पुं.) जिसका ललाट, कमर और छाती—ये तीनों अंग चौड़े हों ।
 त्रिवीज—(सं. पुं.) श्यामक, सावाँ ।
 त्रिवृत्—(सं. पुं.) करवनी, तेज, यज्ञ; (वि.) तिगुना ।
 त्रिवृत्करण—(सं. पुं.) तेज, जल और अन्न का योग; पृथ्वी, जल और तेज का मिश्रण ।
 त्रिवृत्पर्णी—(सं. स्त्री.) हुरहुर का पीवाया फूल ।
 त्रिवेणी—(सं. स्त्री.) तीन नदियों का संगम, प्रयाग में वह स्थान जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम

है, हठ-योग के अनुसार इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना—इन तीनों नाड़ियों का एक स्थान में मिलना ।
 त्रिवेणु—(सं. पुं.) रथ के अगले भाग का नाम ।
 त्रिवेद—(सं. पुं.) ऋक्, यजु और साम—ये तीनों वेद, वेदत्रय में बतलाये हुए कर्म ।
 त्रिवेदी—(सं. पुं.) तीनों वेदों को जानने-वाला, ब्राह्मणों का एक भेद, त्रिपाठी, तिवारी ।
 त्रिवेनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'त्रिवेणी' ।
 त्रिशंकु—(सं. पुं.) मार्जार, बिल्ली, पतंग, टिड्डी, चातक पक्षी, पपीहा, एक पर्वत का नाम, जगन्, सूर्यवंशी एक राजा का नाम जिन्होंने सशरीर स्वर्ग जाने की कामना से यज्ञ किया था, (देवताओं को उसके ऐसा करने में विरोध था। अतएव वे आकाश में लटके रह गये); एक नक्षत्र का नाम जिसके विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि यह वही त्रिशंकु राजा है जिसको आकाश से इन्द्र गिरा रहे थे परन्तु विश्वामित्र ने अपने योगबल से उन्हें शून्य में ही रोक दिया था ।
 त्रिशक्ति—(सं. स्त्री.) काली, तारा और त्रिपुरा—ये तीन देवियाँ, राजा का प्रभाव, उत्साह और तंत्र—य तीन शक्तियाँ, गायत्री ।
 त्रिशत—(सं. वि., पुं.) तीन सौ ।
 त्रिशरण—(सं. पुं.) जैनियों के एक आचार्य ।
 त्रिशर्करा—(सं. स्त्री.) गुड़, चीनी और मिर्ची—इन तीनों का समुदाय ।
 त्रिशालक—(सं. वि.) तीन शाखायुक्त, जिसमें स्कंध या तने से तीन शाखाएँ निकली हों;—पत्र—(पुं.) बेल का पेड़ ।
 त्रिशालक—(सं. पुं.) वह घर जिसके उत्तर की ओर दूसरा घर न हो ।
 त्रिशिख—(सं. पुं.) त्रिशूल, किरीट, रावण के एक पुत्र का नाम; (वि.) तीन शिखाओंवाला ।
 त्रिशिखिर—(सं. पुं.) वह पहाड़ जिसमें तीन चोटियाँ हों ।
 त्रिशिरस्—(सं. पुं.) कुबेर, रावण के एक पुत्र का नाम, खर के एक सेनापति का नाम, एक असुर का नाम; (वि.) तीन सिरोंवाला ।
 त्रिशीर्ष—(सं. वि.) तीन चोटियोंवाला ।
 त्रिशीर्षक—(सं. पुं.) त्रिशूल ।
 त्रिशुच—(सं. पुं.) वह जिसको दैहिक, दैहिक और भौतिक—तीनों प्रकार के दुःख हों ।
 त्रिशूल—(सं. पुं.) एक प्रकार का अस्त्र

जिसके सिरे पर तीन फल होते हैं, यह महादेवजी का अस्त्र माना जाता है, दैहिक, दैहिक और भौतिक क्लेश, तन्त्र के अनुसार एक प्रकार की मुद्रा; त्रिशूली—(सं. पुं.) शिव, महादेव, पारा; (स्त्री.) दुर्गा; (वि.) त्रिशूल धारण करनेवाला ।
 त्रिशृंग—(सं. पुं.) त्रिकूट पर्वत, त्रिकोण ।
 त्रिशोक—(सं. पुं.) कण्व ऋषि के एक पुत्र का नाम, त्रिशूल ।
 त्रिष्टुम—(सं. स्त्री.) एक वैदिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर होते हैं ।
 त्रिष्टोम—(सं. पुं.) एक प्रकार का यज्ञ ।
 त्रिसंगम—(सं. पुं.) तीन नदियों के मिलने का स्थान, तीन वस्तुओं का मेल ।
 त्रिसंधि—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का फल जो सफेद, लाल और काला—तीनों रंग का होता है ।
 त्रिसंध्य—(सं. पुं.) प्रातः, मध्याह्न और सन्ध्या—ये तीन काल;—व्यापिनी—(स्त्री.) वह तिथि जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहती हो ।
 त्रिसंध्या—(सं. स्त्री.) प्रातः, मध्याह्न और सायं-काल ये तीनों संधि-काल ।
 त्रिसर—(सं. पुं.) तिल मिली हुई खिचड़ी ।
 त्रिसरी—(सं. पुं.) एक प्रकार का धोड़ा जिसका केवल सिर काला हो तथा अन्य सब अंग भिन्न-भिन्न वर्ण के हों ।
 त्रिसर्ग—(सं. पुं.) सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण, सृष्टि ।
 त्रिसुगंधि—(सं. पुं.) दालचीनी, इलायची और तेजपात—इन तीनों सुगन्धित पदार्थों का समूह ।
 त्रिस्कंध—(सं. पुं.) ज्योतिष शास्त्र ।
 त्रिस्तनी—(सं. स्त्री.) एक राक्षसी जिसके तीन स्तन थे, गायत्री ।
 त्रिस्थली—(सं. स्त्री.) गया, काशी और प्रयाग—ये तीन पुण्य स्थान ।
 त्रिस्थान—(सं. पुं.) तीनों लोकों में रहने-वाला परमेश्वर ।
 त्रिस्तान—(सं. पुं.) सवेरे, दोपहर तथा संध्या—तीनों समयों का स्नान ।
 त्रिलोतसी—(सं. स्त्री.) जिस नदी से तीन स्रोत निकले हों ।
 त्रिलोता—(सं. स्त्री.) गंगा नदी ।
 त्रिहायण—(सं. पुं.) तीन वर्ष का बछवा ।
 त्रिहायणी—(सं. स्त्री.) द्रौपदी जो सत्य-युग में वेदवती, त्रेता में सीता और द्वापर में द्रौपदी के रूप में अवतरित हुई ।
 वृटि—(सं. स्त्री.) छोटी इलायची,

न्यूनता, अभाव, संशय, समय का अत्यन्त सूक्ष्म भाग, कार्तिकेय की एक मातृका का नाम, भूलचक्र, वचनमंग ।
 श्रुति- (सं. वि.) टटा-फूटा, जिस पर आघात पड़ा हो, गिरा हुआ ।
 श्रुतिद्वीज- (सं. पुं.) अरुई ।
 श्रुतिस्वीकार- (सं. पुं.) द्योप की स्वीकृति ।
 श्रुती- (हिं. स्त्री.) देखें 'श्रुति' ।
 त्रेता- (सं. स्त्री.) दक्षिण, गार्हपत्य और आहुवनीय नामक तीन अग्नियाँ, तीन कौड़ियों से खेला जानेवाला जुआ; (पुं.) चार युगों में से दूसरा युग जो कार्तिक शुक्ल नवमी से आरम्भ हुआ था; -युग- (पुं.) त्रेता नामक युग ।
 त्रै- (हिं. वि.) तीन ।
 त्रैककुन्द- (सं. पुं.) काजल या सुरमा ।
 त्रैकटु- (सं. पुं.) देखें 'त्रिकटु' ।
 त्रैकालज्ञ- (सं. वि.) त्रिकालज्ञ ।
 त्रैकालिक- (सं. वि.) तीनों काल में अर्थात् सर्वदा रहनेवाला, त्रिकाल-संबंधी ।
 त्रैकोणिक- (सं. पुं.) वह जिसमें तीन कोण हों, तिपहला ।
 त्रैगुणिक- (सं. वि.) तीन वार गुणा किया हुआ ।
 त्रैगुण्य- (सं. पुं.) सत्व, रज और तम- इन गुणों का धर्म या भाव ।
 त्रैदशिक- (सं. पुं.) अँगुली का अग्रभाग जो तीर्थ कहलाता है ।
 त्रैध- (सं. अव्य.) तीन प्रकार से ।
 त्रैधावती- (सं. स्त्री.) एक प्रकार का यज्ञ ।
 त्रैपुर- (सं. पुं.) त्रिपुर देश ।
 त्रैबलि- (सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
 त्रैमातुर- (सं. पुं.) लक्ष्मणजी ।
 त्रैमासिक- (सं. वि.) तीन महीनों का, हर तीसरे महीने प्रकाशित होनेवाला ।
 त्रैयंबका- (सं. स्त्री.) गायत्री ।
 त्रैराशिक- (सं. पुं.) गणित की वह क्रिया जिसमें तीन ज्ञात राशियों से चौथी अज्ञात राशि निकाली जाती है ।
 त्रैरूप्य- (सं. पुं.) त्रिधा-रूप वह जिसका आकार तीन प्रकार का हो ।
 त्रैलोक्य, त्रैलोक्य- (सं. पुं.) स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, इक्कीस मात्राओं का एक छन्द; -विजया- (स्त्री.) सिद्धि, भाग ।
 त्रैवर्गिक- (सं. वि.) जिससे धर्म, अर्थ और काम-इन तीनों की साधना या सिद्धि हो ।
 त्रैवर्ग्य- (सं. वि.) देखें 'त्रैवर्गिक' ।
 त्रैवर्णिक- (सं. पुं.) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीनों जातियों का धर्म; (वि.) तीन वर्णों से संबंधित ।

त्रैवर्णिक- (सं. वि.) तीन वर्णों में होनेवाला, हर तीसरे वर्ण होनेवाला ।
 त्रैविक्रम- (सं. पुं.) त्रिविक्रम के अवतार, विष्णु ।
 त्रैविद्य- (सं. पुं.) तीनों वेदों का जाननेवाला ।
 त्रैविध्य- (सं. पुं.) तीन प्रकार, तीन तरह ।
 त्रैविष्टप- (सं. पुं.) स्वर्ग में रहनेवाले देवता ।
 त्रैष्टभ- (सं. वि.) त्रिष्टभ संबंधी ।
 त्रैहायण- (सं. वि.) तीन वर्ष में होनेवाला; (पुं.) तीन वर्ष का समय ।
 त्रोटक- (सं. वि.) छेदक, भेदक; (पुं.) दृश्य काव्य का एक भेद, (इसमें ५, ७, ८ या ९ अंक होते हैं और किसी स्वर्गीय या पार्थिव विषय का वर्णन होता है। यह नाटक शृंगार-रस-प्रधान होता है); एक राग का नाम, एक विषैला कीड़ा, शंकराचार्य के एक शिष्य का नाम ।
 त्रोटकी- (सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 त्रोटि- (सं. स्त्री.) एक प्रकार का पक्षी, चोंच, जायफल, एक प्रकार की मछली ।
 त्रोटिहस्त- (सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया ।
 त्रोटि- (सं. स्त्री.) चिड़िया की चोंच ।
 त्रोग, त्रोन- (हिं. पुं.) तरकश ।
 त्रोटल- (सं. वि.) तुतलाकर बोलनेवाला ।
 त्र्यंगट- (सं. पुं.) छिक्का, सिकहर, ईश्वर, चन्द्रमा ।
 त्र्यंगुल- (सं. वि., पुं.) तीनअंगुल का (प्रमाण) ।
 त्र्यंबक- (सं. पुं.) शिव, महादेव, ग्यारह रुद्रों में से एक रुद्र; सख- (पुं.) कुवेर ।
 त्र्यंबका- (सं. स्त्री.) दुर्गा जिसके सोम, सूर्य और अनल-ये तीन नेत्र हैं ।
 त्र्यश- (सं. पुं.) तिगुना अंश, तिहाई भाग ।
 त्र्यक्ष- (सं. पुं.) त्रिनेत्र, शिव; (वि.) जिसको तीन आँखें हों ।
 त्र्यक्षर- (सं. पुं.) प्रणव, ओंकार, एक प्रकार का छन्द; (वि.) तीन अक्षरों का ।
 त्र्यधिपति- (सं. पुं.) तीनों लोकों के अधिपति, कृष्ण, विष्णु ।
 त्र्यधीश- (सं. पुं.) कृष्ण, विष्णु ।
 त्र्यध्वगा- (सं. स्त्री.) गंगा ।
 त्र्यब्द- (सं. पुं.) तीन वर्ष का काल ।
 त्र्यवि- (सं. पुं.) अठारह महीने का पशु ।
 त्र्यस्त्र- (सं. पुं.) व्याघ्रनख; (स्त्री.) चमेली; -फल- (पुं.) सेल का वृक्ष ।
 त्र्यह- (सं. पुं.) तीन दिन का काल ।
 त्र्यहैहिक- (सं. पुं.) वह गृहस्थ जिसके पास तीन दिन तक खाने का अन्न हो ।
 त्र्यायुष- (सं. पुं.) बाल्य, यौवन और स्यविरता (वृद्धावस्था)-ये तीन अवस्थाएँ ।
 त्र्याहिक- (सं. वि.) तीसरे दिन आने-

वाला ज्वर, तिजरा ।
 त्वक्- (सं. पुं.) छिलका, छाल, खाल, चमड़ा, स्पर्श करने की इन्द्रिय, कंचुक, कचुली; -कंडूर- (पुं.) फोड़ा; -क्षीरा- (पुं.) वंशलोचन; -छेद- (पुं.) मुसल-मानों में शिश्न के अगले भाग का चमड़ा काटने का संस्कार; -पत्र- (पुं.) दारचीनी; -पुण्य- (पुं.) रोमांच; -सार- (पुं.) वाँस का छिलका, दारचीनी; -सारा- (पुं.) वंशलोचन; -सुगंध- (पुं.) लवंग ।
 त्वगंध- (सं. पुं.) नारंगी, नीवू ।
 त्वचकना- (हिं. क्रि. अ.) पचकना ।
 त्वचा- (सं. स्त्री.) चमड़ा, छाल, बल्कल, कंचुली ।
 त्वक्कृत- (सं. वि.) तुम्हारे द्वारा किया हुआ ।
 त्वदीय- (सं. स्त्री.) तुम्हारा ।
 त्वरण, त्वरा- (सं. पुं., स्त्री.) शीघ्रता, जल्दी ।
 त्वरारोह- (सं. पुं.) पारावत, कबूतर ।
 त्वरावान्- (सं. वि.) शीघ्रता करनेवाला ।
 त्वरित- (सं. वि.) शीघ्र, गामी; (अव्य.) जल्दी से; -गति- (स्त्री.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दस अक्षर होते हैं ।
 त्वलग- (सं. पुं.) जलसर्प, डोंड़हा ।
 त्वष्टा- (सं. पुं.) विश्वकर्मा, शिव, महादेव, बड़ई, एक वैदिक देवता, वारह आदित्यों में से एक, एक प्रजापति का नाम ।

थ

थ- हिन्दी तथा संस्कृत वर्णमाली का सत्रहवाँ ध्वजन तथा तवर्ग का दूसरा अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान दन्तमूल है ।
 थंका- (हिं. पुं.) थोक में ।
 थंब, थंभ- (हिं. पुं.) स्तम्भ, खंभा, सहारा, चाँड़, टेक, थूनी, सहारे का बल्ला ।
 थंभन- (हिं. पुं.) स्तम्भन, रंकावट, ठहराव, तन्त्र के छः प्रयोगों में से एक ।
 थंभना- (हिं. क्रि. अ.) देखें 'थंभना' ।
 थंभित- (हिं. वि.) स्तंभित, रंका हुआ, स्थिर, निश्चल, अचल ।
 थक- (हिं. पुं.) देखें 'थाक' ।
 थकना- (हिं. क्रि. अ.) क्लान्त होना, शिथिल होना, ऊब जाना, बुढ़ापे के कारण अशक्त होना, दुबल होना, पीमा पड़ना, मोहित होना ।
 थकान- (हिं. स्त्री.) शिथिलता, थकावट ।
 थकाना- (हिं. क्रि. स.) शिथिल करना, थान्त करना ।
 थका-मांदा- (हिं. वि.) जो परिश्रम करते

करते अशक्त हो गया हो, श्रमित, क्लान्त ।
 थकार—(सं. पुं.) 'थ' स्वरूप अक्षर ।
 थकारादि—(सं. पुं.) जिसके आदि में 'थ' अक्षर हो ।
 थकारांत—(सं. वि.) जिसके अन्त में 'थ' अक्षर हो ।
 थकाव, थकावट—(हिं. स्त्री.) शिथिलता, थकने का भाव ।
 थकाहट—(हिं. स्त्री.) देखें 'थकावट' ।
 थकित—(हिं. वि.) श्रान्त, शिथिल, थका हुआ, मुग्ध, मोहित ।
 थकिया—(सं. स्त्री.) वह थक्का जो किसी गाढ़ी द्रव वस्तु के जमने से बन जाता है, गलाई हुई घातु का लोदा ।
 थकीहाँ—(हिं. वि.) शिथिल, कुछ थका हुआ, थका-माँदा ।
 थक्का—(हिं. पुं.) गली हुई घातु का जमा हुआ लोदा, जमा हुआ कतरा, किसी द्रव वस्तु पर की मोटी तह ।
 थगित—(हिं. वि.) ठहरा हुआ, रुका हुआ, शिथिल, मन्द, ढीला ।
 थति—(हिं. स्त्री.) देखें 'थाती' ।
 थत्ती—(हिं. स्त्री.) राशि, ढेर, पुंज ।
 थन—(हिं. पुं.) चौपायों का स्तन ।
 थनी—(हिं. स्त्री.) बकरी के गले के नीचे लटकती हुई स्तन के आकार की मांस की दो थैलियाँ, गलथना, थन के आकार का लटकता हुआ मांस का पिंड ।
 थनेला—(हिं. पुं.) स्त्रियों के स्तन पर होनेवाला एक प्रकार का फोड़ा, गोबर-रेले के आकार का एक प्रकार का कीड़ा ।
 थनेत—(हिं. पुं.) गाँव का प्रधान पुरुष या मुखिया, वह मनुष्य जो भूस्वामी की ओर से कृपकों से कर उगाहता है, कार्रदा ।
 थपक (न)—(हिं. पुं.) वह आघात जो प्रेम से किसी के शरीर पर किया जाय, देखें 'थपकी' ।
 थपकना—(हिं. क्रि. स.) स्नेहवश किसी के शरीर पर धीरे-धीरे थपकी मारना, बच्चे को सुलाने के लिए उसको धीरे-धीरे ठोकना, पुचकारना; ढाड़स देना, किसी का क्रोध शान्त करना ।
 थपका—(हिं. पुं.) थक्का, थपकी ।
 थपकी—(हिं. स्त्री.) वह आघात जो प्रेम-वश किसी के शरीर पर हथेली से धीरे-धीरे किया जाता है, धीरे-धीरे हाथ से ठोकने की क्रिया, हाथ से थपका देने का काम, थापी, घोबी का कपड़ा पीटने का मुँगरा ।
 थपड़ी—(हिं. स्त्री.) ताली वजाने की आवाज ।

थपथपी—(हिं. स्त्री.) देखें 'थपकी' ।
 थपन—(हिं. पुं.) स्थापन, ठहराने का काम ।
 थपना—(हिं. क्रि. अ. स.) स्थापित होना, ठहरना, जमना, धीरे-धीरे ठोकना; (पुं.) पीटने का कोई उपकरण, थापी ।
 थपुआ—(हिं. पुं.) छाजन का चौरस और चौड़ा खपड़ा जिसके दोनों ओर नरिया बँटाई जाती है ।
 थपेड़ना—(हिं. क्रि. स.) थप्पड़ मारना ।
 थपेड़ा—(हिं. पुं.) हथेली से किया हुआ आघात, थप्पड़, ठोकर, टक्कर ।
 थपोड़ी, थपोरी—(हिं. स्त्री.) ताली ।
 थप्पड़—(हिं. पुं.) तमाचा, चपेट, घक्का, ठक्कर, आघात ।
 थप्पा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का जहाज ।
 थम—(हिं. पुं.) खंभा, थूनी, केले का वृक्ष ।
 थमकारी—(हिं. वि.) स्तम्भन करने-वाला, रोकनेवाला ।
 थमना—(हिं. क्रि. अ.) ठहरना, रुकना, बन्द होना, धँस रखना ।
 थर—(हिं. स्त्री.) तह, परत, वाघ या शेर की माँद ।
 थरकना—(हिं. क्रि. अ.) मय से काँपना, थराना ।
 थरकौंहा—(हिं. वि.) काँपनेवाला ।
 थरथर—(हिं. स्त्री.) मय के कारण कम्पन, डर से काँपने की मुद्रा; (अव्य.) काँपते हुए ।
 थरथराना—(हिं. क्रि. अ.) मय से काँपना ।
 थरथराहट—(हिं. स्त्री.) मय से उत्पन्न कँपकँपी ।
 थरथरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'थरथराहट' ।
 थरना—(हिं. क्रि. स.) काँटी आदि की नोक को हथौड़ी से पीटकर चिपटी करना; (पुं.) नकाशी करने का एक औजार ।
 थरहरी—(हिं. स्त्री.) मय से उत्पन्न कँपकँपी ।
 थरि—(हिं. स्त्री.) वाघ आदि की माँद ।
 थरिया—(हिं. स्त्री.) देखें 'थाली' ।
 थराना—(हिं. क्रि. अ.) मय से काँपना ।
 थल—(हिं. पुं.) स्थल, ठिकाना, स्थान, फोड़े का फूला हुआ लाल घेरा, सूखी भूमि, रेत, मँड़, वाघ की माँद, ऊँची भूमि, टीला ।
 थलकना—(हिं. क्रि. अ.) झोल होने के कारण ऊपर-नीचे हिलना, मोटेपन के कारण डोलने में शरीर का मांस हिलना ।
 थलचर—(हिं. पुं.) स्थलचर, भूमि पर रहनेवाला प्राणी ।
 थलचारी—(हिं. वि.) भूमि पर चलनेवाला, स्थलचर ।

थलथल—(हिं. वि.) मोटाई के कारण हिलता हुआ (मांस) ।
 थलथलाना—(हिं. क्रि. अ.) मोटाई के कारण शरीर के मांस का ऊपर-नीचे हिलना ।
 थलपति—(हिं. पुं.) भूपति, राजा ।
 थलवेड़ा—(हिं. पुं.) नाव या जहाज के टिकने का स्थान ।
 थलरह—(हिं. वि.) स्थलरह, भूमि पर उत्पन्न होनेवाले वृक्ष, लता आदि ।
 थलिया—(हिं. स्त्री.) देखें 'थाली' ।
 थली—(हिं. स्त्री.) स्थली, स्थान, ठिकाना, ऊँची भूमि, टीला, परती या रेतीली भूमि, बँठने का स्थान, नदी के नीचे का तल ।
 थवई—(हिं. पुं.) मकान बनानेवाला राज ।
 थवना—(हिं. पुं.) गीली मिट्टी का बनाया हुआ गोला जिसमें चरखी छोड़ने के लिए बाँस का पोला टोटी बँसाया रहता है ।
 थहना—(हिं. क्रि. स.) थाह लगाना ।
 थहरना—(हिं. क्रि. अ., स.) थरथराना, काँपना, (बोलचाल में—थाह लेना, गहराई का पता लगाना ।)
 थहाना—(हिं. क्रि. स.) गहराई का पता लगाना, थाह लगाना, किसी के आशय को जानने का प्रयत्न करना ।
 थाँग—(हिं. स्त्री.) वह गुप्त स्थान जहाँ चोर या डाकू छिपे रहते या ठहरते हैं, अनुसन्धान, खोज, पता, गुप्त रूप से किसी बात का पता लगाना, भेद ।
 थाँगी—(हिं. पुं.) वह मनुष्य जो चोरी का माल लेता या अपने पास रखता हो, चोरों का भेदिया, चोरी का पता लगाने-वाला, जासूस, चोरों का सरदार; —दारी—(स्त्री.) थाँगी का काम ।
 थाँभ—(हिं. पुं.) खंभा, थूनी, चाँड़ ।
 थाँवला—(हिं. पुं.) थाला या घरा जो किसी पेड़ के चारों ओर बनाया जाता है
 था—(हिं. क्रि. अ.) 'होना' क्रिया का भूतकाल का रूप, रहा ।
 थाई—(हिं. वि.) स्थायी, स्थिर रहने-वाला, बहुत दिनों तक बना रहनेवाला; (पुं.) बँठने का स्थान, बँठक, ध्रुवपद, वह पद जो गाने में बार-बार दुहराया जाता है ।
 थाक—(हिं. पुं.) गाँव की सीमा या सरहद, राशि, ढेर, समूह ।
 थाकना—(हिं. क्रि. अ., स.) थकना, थाक लगाना ।
 थाति—(हिं. स्त्री.) स्थिरता, टिकाव, ठहराव ।
 थाती—(हिं. स्त्री.) धरोहर, जमा, पुंजी,

संचित धन, अमानत ।

थान—(हि.पुं.) स्थान, ठिकाना, निवास-स्थान, डेरा, घोड़े या चीपायों को बाँधने का स्थान, मन्दिर, देवालय, संख्या, कपड़े, गोटें आदि का पूरा टुकड़ा, घोड़े के नीचे बिछाई जानेवाली घास ।

थानक—(हि.पुं.) स्थान, वह गड़वा जिसके भीतर वृक्ष लगाया जाता है, थाला ।

थाना—(हि.पुं.) ठहरने का स्थान, अड़्डा, ठिकाना, पुलिस की बड़ी चौकी, बाँस की कोठी ।

थानेदार—(हि.पुं.) थाने का प्रधान अधिकारी ।

थानेदारी—(हि.स्त्री.) थानेदार का पद या कार्य ।

थानेश्वर—(हि.पुं.) पंजाब में स्थित एक हिंदू तीर्थ ।

थानंत—(हि.पुं.) किसी स्थान का स्वामी, ग्राम-देवता, किसी स्थान का देवता ।

थाप—(हि.स्त्री.) मृदंग, तबले आदि पर पूरे पंजे का आघात, ठोंक, शपथ, महत्त्व, प्रतिष्ठा, धाक, साख, थप्पड़, छाप, स्थिति, जमाव, प्रमाण, पंचायत ।

थापन—(हि.पुं.) स्थापित करने की क्रिया, प्रतिष्ठित करने का कार्य, रखने का काम ।

थापना—(हि.क्रि.स.) स्थापित करना, बैठाना, हाथ से पीटकर या साँचे में भरकर किसी गीली वस्तु का कुछ बनाना; (स्त्री.) स्थापन, नवरात्र में घट-स्थापन, किसी प्रतिमा का स्थापन या प्रतिष्ठा ।

थापर—(हि.पुं.) थप्पड़ ।

थापरा—(हि.पुं.) छोटी नाव, डोंगी ।

थापा—(हि.पुं.) पंजे का छाप जिसको स्त्रियाँ मंगल अवसर पर घर की भीत पर लगाती हैं, रंग पीतकर कोई चिह्न बनाने का साँचा या छाप, खलिहान में अन्न के ढेर पर लगाया हुआ गोबर का चिह्न, वह चन्दा जो गाँव में देवी-देवता की पूजा के लिए इकट्ठा किया जाता है, साँचा जिसमें कोई गीली मिट्टी आदि भरकर कुछ बनाया जाता है ।

थापी—(हि.स्त्री.) कुम्हार की कच्चा घड़ा पीटने की मृंगरी, गच पीटने की राज की चिपटी मृंगरी ।

थाम—(हि.पुं.) स्तम्भ, खंभा, मस्तूल; (स्त्री.) पकड़, थामने की रीति या ढंग ।

थामना—(हि.क्रि.स.) रोके रहना, गिरने

से रोकना, कोई कार्य का भार अपने ऊपर लेना, पकड़ना, हाथ में लेना, मदद देना, सँभालना, सहारा देना, चौकसी में रखना, ग्रहण करना ।

थायी—(हि.वि.) स्थायी, स्थिर, दृढ़ ।

थार (ल)—(हि.पुं.) बड़ी थाली ।

थारू—(पुं.) विहार प्रान्त की एक जंगली जाति विशेष ।

थाला—(हि.पुं.) फोड़े का थल, आलवाल, वह गड़वा जिसमें पेड़ बैठाया जाता है ।

थाली—(हि.स्त्री.) गोल छिछला बरतन, छोटा थाल, नाच की एक गत; (मुहा.)—का बैंगन-लाभ-हानि के अनुसार पक्ष बदलनेवाला ।

थावर—(हि.वि.) देखें 'स्थावर' ।

थाह—(हि.स्त्री.) जल की गहराई का अन्त, जलाशय का तल भाग, कम गहरा पानी, अन्त, पार, किसी संख्या के परिमाण का अनुमान, परिमित, हद, किसी बात का गुप्त रीति से लगाया गया पता ।

थाहना—(हि.क्रि.स.) गहराई का पता लगाना, अनुमान करना ।

थाहरा—(हि.वि.) कम गहरा, छिछला, जहाँ जल गहरा न हो ।

थिगली—(हि.स्त्री.) किसी फटे हुए वस्त्र के छेद पर लगाने की चकती, पेवन; (मुहा.) बादल में थिगली लगाना—बड़ा कठिन या असंभव काम करना ।

थित—(हि.वि.) स्थित, ठहरा हुआ, स्थापित, रखा हुआ ।

थिति—(हि.स्त्री.) स्थायित्व, ठहराव, विश्राम करने का स्थान, बने रहने का भाव, रहन, अवस्था, दशा, सुरक्षा ।

थिर—(हि.वि.) स्थिर, अचल, ठहरा हुआ, स्थायी, शान्त, दृढ़, टिकाऊ ।

थिरक—(हि.स्त्री.) नृत्य में पैरों का हिलना-डोलना ।

थिरकना—(हि.क्रि.अ.) नृत्य में अंगों का संचालन करना, ठमक-ठमककर नाचना ।

थिरता, थिरताई—(हि.स्त्री.) स्थिरता, ठहराव, स्थायित्व, शान्ति, चंचलता ।

थिरना—(हि.क्रि.अ.) जल का क्षुब्ध न रहना, पानी का हिलना बन्द होना, पानी छन जाना, निथरना, पानी में मिली हुई वस्तु का तल में जमना, निथरकर स्वच्छ होना ।

थिरा—(हि.स्त्री.) स्थिरा, पृथ्वी ।

थिराना—(हि.क्रि.अ.,स.) हिलते हुए जल का स्थिर होना, किसी तरल पदार्थ को स्थिर रखना जिससे उसमें मिली हुई

वस्तु तल में बैठ जाय, थिराकर किसी घुली हुई वस्तु को तल में बैठने देना, पानी को थिराकर छानना ।

थी—(हि.क्रि.अ.) 'था' का स्त्रीलिंग रूप ।

थीर—(हि.वि.) स्थिर ।

थुकवाना—(हि.क्रि.स.) देखें 'थुकाना' ।

थुकहाई—(हि.वि.) वह स्त्री जिसकी निन्दा सब कोई करता हो ।

थुकाई—(हि.स्त्री.) थुकने का काम ।

थुकाना—(क्रि.वि.स.) किसी से थुकने का काम कराना, उगलवाना, तिरस्कार या निन्दा कराना ।

थुक्का फजीहत—(हि.स्त्री.) थुड़ीथुड़ी, निन्दा और तिरस्कार, लड़ाई-झगड़ा, धिक्कार ।

थुक्की—(हि.स्त्री.) रेवाम के रेवो अलगाने के लिये उनमें थुक लगाना ।

थुड़ी—(हि.स्त्री.) तिरस्कार और धृणा-सूचक शब्द, धिक्कार, लानत; (मुहा.)—थुड़ी करना—धिक्कारना ।

थुत्कार—(सं.पुं.) वह शब्द जो थुकते समय मुख से उत्पन्न होता है ।

थुथना—(हि.पुं.) देखें 'थुथन' ।

थुथाना—(हि.क्रि.अ.) अप्रसन्न होना, मुंह बनाना ।

थुनेर—(हि.पुं.) एक प्रकार का वृक्ष, गठिवन ।

थुन्नी—(हि.स्त्री.) स्तम्भ, खंभा, चाँड़, थूनी ।

थुपरना—(हि.क्रि.स.) महुवे के फलों को ढेर बनाकर दवाकर रखना ।

थुपरा—(हि.पुं.) महुवे के फलों का ढेर ।

थुरना—(हि.क्रि.स.) मारना, पीटना, कूटना ।

थुरहथा—(हि.वि.) छोटे हाथवाला, जिसकी हथेली में थोड़ी वस्तु समा सके, मितव्ययी ।

थुलमा—(हि.पुं.) पहाड़ी मोटा कम्बल ।

थुली—(हि.स्त्री.) दलिया, दलकर महीन किया हुआ अन्न ।

थूक—(हि.पुं.) देखें 'थूक' ।

थूकना—(हि.क्रि.अ.) देखें 'थूकना' ।

थू—(हि.अव्य.) तिरस्कार-सूचक शब्द, छि; थुकने का शब्द; (मुहा.)—थू करना—धिक्कारना ।

थूक—(हि.पुं.) निष्ठीवन, खखार; (मुहा.)—देना—निन्दा करना, तिरस्कार करना;

थूकों सत्तू सानना—थोड़ी-सी सामर्थ्य पर बड़ा काम करने के लिए उद्यत होना ।

थूकना—(हि.क्रि.अ.) मुख से थूक निकालना, मुख में रखी हुई वस्तु को

गिराना, उगलना, तिरस्कार करना, विवकारना; (मुहा.) शूक कर चाटना—किसी दी हुई वस्तु को फेर लेना, प्रतिज्ञा करके मुकर जाना।

शूथन—(हि. पूं.) मुख का वह पतला भाग जो आगे को निकला हुआ हो।

शूथनी—(हि. स्त्री.) शूथन, हाथी के मुख का एक रोग।

शूथरा—(हि. वि.) शूथन की तरह बाहर को निकला हुआ मुख, भट्टा, चेहरा।

शूत—(हि. पूं.) स्तम्भ, खंभा, चाँड़।

शूना—(हि. पूं.) मिट्टी का लोंदा जिसमें परेता खोसकर रेशम का तागा उकेला जाता है।

शूनी—(हि. स्त्री.) खंभा, चाँड़, बोझ रोकने के लिये लगाया हुआ डंडा, मथानी का डंडा, टेकने का साधन; सर्प का विष दूर करने के लिए डसने के स्थान को तपे हुए लोहे से दागने की विधि।

शूरना—(हि. क्रि. स.) भारना, पीटना, कूटना, कसकर भरना, ठूसकर खाना।

शूल—(हि. वि.) स्थूल, भट्टा, भारी।

शूला—(हि. वि.) हृष्ट-पुष्ट।

शूली—(हि. स्त्री.) दलकर अलग किये हुए अन्न के छोटे कण, दलिया, सूजी।

शूवा—(हि. पूं.) ऊँची भूमि, टीला, ढूह, मिट्टी का लोंदा, मिट्टी का ढूहा जो सीमा सूचित करने के लिए बनाया जाता है; (स्त्री.) चिक्कार का शब्द।

शूहड़, शूहर—(हि. पूं.) एक छोटा पौधा जिसके तने से कँटीले डंड के आकार के डंठल निकलते हैं, (इसके डंठलों और पत्तों में से विषैला दूध निकलता है जो औषधों में प्रयोग किया जाता है), सेहूँड़।

शूहा—(हि. पूं.) ऊँची भूमि, टीला, राशि, ढेर।

शूही—(हि. स्त्री.) मिट्टी का ढेर, मिट्टी का खम्भा जो कुएँ पर बनाया जाता है जिस पर लकड़ी रखकर पानी खींचने के लिए गड़ारी लगाई जाती है।

शूथर—(हि. वि.) श्रान्त, थका हुआ।

शूई-शूई—(हि. वि.) तालसूचक नाच और मुद्रा।

शूला—(हि. पूं.) कपड़े या टाट का बना हुआ झोला जिसमें कोई वस्तु रखी जा सके, रुपयों का तोड़ा, पायजामे का जाँघ से घटने तक का भाग।

शूली—(हि. वि.) छोटा थैला, रुपयों से भरा वा थैला, तोड़ा; (मुहा.)—खोलना—थैली से रुपये निकालकर देना;—दार—

(पुं.) रोकड़िया, थोक माल बेचने वाला व्यापारी।

शूक—(हि. पूं.) राशि, ढेर, झुंड, समूह, एकत्रित वस्तुएँ, इकट्ठा बेचने की वस्तुएँ, भूमि का टुकड़ा; (मुहा.)—करना—इकट्ठा करना।

शूडन—(सं. पूं.) आच्छादन, ढपना।

शूडा—(हि. वि.) न्यून, कम, अल्प, किंचित् परिमाण का; (अव्य.) तनिक;—बहुत—(वि.) न्यूनाधिक; थोड़े ही—(अव्य.) विलकुल नहीं।

शूती—(हि. स्त्री.) देखें 'शूथन'।

शूथ—(हि. स्त्री.) पोलापन, तोंद।

शूथरा—(हि. वि.) निःसार, पोला, व्यर्थ का।

शूथा—(हि. वि.) निःसार, खोखला, विना पूँछ का, बाँड़ा, निकम्मा, माथरा मिट्टी का साँचा जिसमें पात्र आदि ढाला जाता है।

शूथी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास।

शूपड़ी—(हि. स्त्री.) थप्पड़, चपत, घौल।

शूपना—(हि. क्रि. स.) पानी में सनी हुई मिट्टी का भीत पर मोटा लेप चढ़ाना, आरोपित करना, आक्रमण से बचाना, छोपना।

शूबड़, शूबड़ा—(हि. पूं.) पशुओं का शूथन।

शूर, शूरा—(हि. वि.) देखें 'थोड़ा'।

शूरिक—(हि. वि.) थोड़ा-सा, अल्प मात्रा का।

शूँद—(हि. पूं.) तोंद।

शूवास—(हि. पूं.) स्थिरता, दृढ़ता, धीरज।

द

द—संस्कृत तथा हिन्दी वर्णमाला का अठारहवाँ व्यंजन तथा तवर्ग का तीसरा

अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान दन्तमूल है।

(सं. पूं.) अचल, पर्वत, दाँत, दाता;

खंडन; (स्त्री.) भार्या, पत्नी; न्याय—

(प्रत्य.) दाता, देनेवाला।

दंगई—(हि. वि., पूं.) दंगा करनेवाला।

दंगल—(हि. पूं.) कुश्ती की प्रतिद्विष्टता।

दंगली—(हि. वि.) झगड़ालू, जीतनेवाला।

दंगदारा—(हि. पूं.) किसानों का परस्पर हल-शैल आदि की सहायता लेना-देना।

दंगा—(हि. पूं.) उपद्रव, झगड़ा।

दंगेत—(हि. पूं.) उपद्रवी, लडाका।

दंगवाज—(फा. वि., पूं.) देखो 'दंगई'।

दंड—(सं. पूं.) यष्टि, लाठी, डंडा, एक प्रकार

घोड़ा, के व्यूह का नाम, दमन, शासन, कोना, मथानी, सजा, डौंड, अभिमान,

घमंड, दंड के आकार का एक ग्रह, यम, इक्ष्वाकु वंश के एक राजा का नाम,

विष्णु, राजाओं की चार नीतियों में से एक; लंबी लकड़ी जो हल में लगी रहती है, चार हाथ की नाप, २४ मिनट का समय, घड़ी; (मुहा.)—भरना—किसी की हानि को पूरा करना;—भोगना—दंड सहना;—सहना—घाटा सहना।

दंड-कंदक—(सं. पूं.) भूमि-कंद।

दंडक—(सं. पूं.) सेम्हर का मुँतरा; एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में २६ से अधिक होते हैं, डंडा, दंडकारण्य, दंड देने वाला।

दंडकर्ता—(सं. वि.) दंड देनेवाला।

दंडकला—(सं. पूं.) एक प्रकार का छन्द।

दंडकाक—(सं. पूं.) डोम कौवा, काला कौवा।

दंडकारण्य—(सं. पूं.) एक प्रसिद्ध वन जो विन्ध्य पर्वत से, गोदावरी नदी के किनारे तक फैला हुआ है। वनवास के समय श्रीरामचन्द्र इसी वन में चौदह वर्ष रहे थे।

दंडकी—(सं. स्त्री.) ढोलक।

दंडगौरी—(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम।

दंडग्रहण—(सं. पूं.) संन्यास आश्रम ग्रहण करना।

दंडग्राह—(सं. वि.) दंड धारण करनेवाला।

दंडघ्न—(सं. वि.) राजा के दिये हुए दंड को न माननेवाला।

दंडचक्र—(सं. पूं.) सेना-विभाग का एक क्रम।

दंडदक्का—(सं. स्त्री.) दुन्दुभी, नगाड़ा।

दंडताम्री—(सं. स्त्री.) जलतरंग वाजा जो ताँबे की प्यालियों में जल भरकर बजाया जाता है।

दंडत्व—(सं. पूं.) दंड का भाव, ताड़न।

दंडदास—(सं. पूं.) वह जो अर्थदंड का धन न देने के कारण दास बना हो।

दंडदेवकुल—(सं. पूं.) न्याय-विभाग, शासन-क्रम।

दंडधर—(सं. वि.) दंड धारण करनेवाला; (पुं.) यमराज, शासनकर्ता, राजा, संन्यासी।

दंडधार—(क)—(सं. पूं.) यमराज, राजा, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; (वि.) शासन करनेवाला, दंडधारी।

दंडधारण—(सं. पूं.) संन्यास-आश्रम ग्रहण करना।

दंडधारी—(सं. वि.) दंड धारण करनेवाला संन्यासी।

दंडघ्न—(सं. पूं.) दंड देने की क्रिया, शासन।

दंडना—(हि. क्रि. स.) दंड देना, सजा देना।

दंडनायक—(सं. पूं.) सेनापति, दंड देने का अधिकारी, सूर्य का एक अनुचर।

दंडनिपातन—(सं. पुं.) शासन-पद्धति ।
 दंडनीति—(सं. स्त्री.) दंड-विधान-शास्त्र,
 वह शास्त्र जिसमें राज्य-शासन के संबंध
 के नियम और सिद्धांत हों ।
 दंडनीय—(सं. वि.) दंड देने योग्य ।
 दंडनेता—(सं. वि.) दंड (सजा) देनेवाला ।
 दंडप—(सं. पुं.) दंड-नीति द्वारा शासन
 करनेवाला राजा ।
 दंडपांशुल—(सं. पुं.) द्वारपाल ।
 दंडपाणि—(सं. पुं.) यम जो सर्वदा अपने
 हाथ में दंड धारण किये हुए है ।
 दंडपात—(सं. पुं.) एक प्रकार का सन्नि-
 पात रोग ।
 दंडपाल—(सं. पुं.) द्वारपाल, डचोढ़ीदार ।
 दंडपाली—(सं. स्त्री.) तुलायन्त्र, तराजू ।
 दंडपाशक, दंडपाशिक—(सं. पुं.) दंड
 देनेवाला कर्मचारी, घातक ।
 दंडप्रणाम—(सं. पुं.) भूमि पर साष्टांग
 लेटकर प्रणाम करना ।
 दंडवध—(सं. वि.) प्राणदंड ।
 दंड-वालधि—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी ।
 दंडवाहु—(सं. वि.) जिसकी बांह डंडे
 के समान पुष्ट हो ।
 दंडभीति—(सं. स्त्री.) दंड पाने का भय ।
 दंडभृत्—(सं. पुं.) कुम्हार; (वि.) दंडधारक ।
 दंडमार्थ—(सं. पुं.) सीधा रास्ता, मार्ग ।
 दंडमाथिक—(सं. पुं.) सीधे मार्ग से चलनेवाला ।
 दंडमानव—(सं. पुं.) वह जिसको दंड
 देने की आवश्यकता होती है, बालक ।
 दंड-यात्रा—(सं. स्त्री.) सेना की चढ़ाई, बारात ।
 दंडयाम—(सं. पुं.) यमराज, दिन,
 अगत्य मृत्ति ।
 दंडयोग—(सं. पुं.) देखें 'दंड-विवि' ।
 दंडरी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की ककड़ी ।
 दंडवत्—(सं. वि.) दंड के समान, दंडधारी;
 (स्त्री.) पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम करना ।
 दंडवादी, दंडवादिक—(सं. पुं.) द्वारपाल,
 डचोढ़ीदार ।
 दंडवासी—(सं. पुं.) गाँव का मुखिया ।
 दंडवाही—(सं. पुं.) दण्ड का विधान करने-
 वाला कर्मचारी ।
 दंडविधि—(सं. पुं.) अपराधी को दंड देने
 की व्यवस्था ।
 दंडविष्कम्भ—(सं. पुं.) मथानी बाँधने का खंभा ।
 दंडवृक्ष—(सं. पुं.) थूहर, सेंहुड़ ।
 दंडसंहिता—(सं. स्त्री.) अपराधी को दंड
 देने की व्यवस्था ।
 दंडसेन—(सं. पुं.) पुत्रवंश के एक राजा का नाम ।
 दंडस्थान—(सं. पुं.) शरीर का वह अंग
 जहाँ दंड दिया जा सकता है ।

दंडाघात—(सं. पुं.) डंडे की मार ।
 दंडाज्ञा—(सं. स्त्री.) दंड देने की आज्ञा ।
 दंडादंडी—(सं. स्त्री.) डंडों की मारपीट ।
 दंडाधिप, दंडाधिपति—(सं. पुं.) दंड,
 राजा ।
 दंडापूणन्यास—(सं. पुं.) एक प्रकार का
 न्याय या दृष्टान्त-कथन जिससे यह
 सूचित किया जाता है कि जब किसी के
 द्वारा कठिन काम किया गया हो तो उसके
 द्वारा सहज काम अवश्य किया गया होगा ।
 दंडायमान—(सं. वि.) जो डंडे की तरह
 सीधा खड़ा हो ।
 दंडार—(सं. पुं.) मदवाला हाथी, एक
 प्रकार का घनुष ।
 दंडालय—(सं. पुं.) वह न्यायालय जहाँ
 दंड देने का विधान हो, एक प्रकार का
 छन्द जो दंडकला भी कहलाता है ।
 दंडासन—(सं. पुं.) हठयोग का एक आसन ।
 दंडाहत—(सं. वि.) डंडे से मारा हुआ ।
 दंडिक—(सं. पुं.) दंड देनेवाला, मारनेवाला ।
 दंडिका—(सं. स्त्री.) डोरी, रस्सी, एक प्रकार
 का हार, वीस अक्षरों का एक वर्णवृत्त ।
 दंडित—(सं. वि.) जिसको दंड मिला हो ।
 दंडिन्—(सं. पुं.) यम, राजा, द्वारपाल,
 महादेव, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम;
 (वि.) दंड धारण करनेवाला ।
 दंडी—(सं. पुं.) हिन्दुओं का एक उपासक
 सम्प्रदाय, (ये लोग दंड-कमंडल लिये
 इधर-उधर घूमते हैं) ।
 दंड्य—(सं. वि.) दंडनीय, जो दंड पाने योग्य हो ।
 दंते—(सं. पुं.) पर्वत का ऊँचा भाग, प्राणियों
 का दाँत, वृत्तिस की संख्या; -क—(पुं.)
 पहाड़ की चोटी, दाँत; -कथा—(स्त्री.)
 सुनी हुई बात, जनश्रुति; -कराल—(पुं.)
 एक प्रकार का दाँत का रोग; -कर्षण—
 (पुं.) जँभीरी नीवू; -काष्ठ—(पुं.)
 दतवन; -काष्ठक—(पुं.) तरवट का
 पेड़; -कर—(पुं.) संग्राम, युद्ध; -केतु—
 (पुं.) छोटे नीवू का पेड़; -ग्राही—(वि.)
 दाँतों को नष्ट करनेवाला; -घर्ष—(पुं.)
 दाँत किरकिराना; -घात—(पुं.) दाँतों
 से काटना; -चाल—(पुं.) दाँतों का
 हिलना; -च्छद—(पुं.) ओष्ठ, ओठ;
 -च्छदी—(स्त्री.) विवाफल, कुन्दरू;
 -जात—(वि.) दाँत निकलने योग्य;
 -जाह—(पुं.) दन्तमूल, दाँत की
 जड़; -दशन—(पुं.) दाँत दिखलाना;
 क्रोध में दाँत पीसने की क्रिया;
 -घावन—(पुं.) दाँत घोने या स्वच्छ
 करने की क्रिया; -पत्र—(पुं.) कान

का एक आभूषण; -पात—(पुं.) दाँतों
 का गिर जाना; -पाली—(स्त्री.)
 दाँत का मूल भाग; -पीठक—(पुं.)
 दाँत के ऊपर का मांस, मसूड़ा; -पुष्प—
 (पुं.) कुन्द का फूल, पीपल का वृक्ष;
 -प्रक्षालन—(पुं.) दाँत स्वच्छ करने का
 काम; -फल—(पुं.) कपित्थ, कैथ;
 -फला—(स्त्री.) पिप्पली, छोटी पीपल;
 -भंग—(पुं.) दाँत का टूटना; -मय—
 (वि.) दाँत के समान; -मल—(पुं.)
 दाँतों का मल या पपड़ी; -मांस—
 (पुं.) मसूड़ा; -मूल—(पुं.) दाँत की
 जड़; -मूलिका—(स्त्री.) जमालगोटे
 का वृक्ष; -मूलीय—(पुं.) दन्तमूल से
 उच्चारण किये जानेवाले वर्ण-तवर्ण;
 -रंजन—(पुं.) मंजन, मिस्सी;
 -रोगी—(वि.) जिसको दाँत का रोग
 हुआ हो; -लेखन—(पुं.) मसूड़े को
 चीरकर इसमें की पीव निकालने की
 क्रिया; -वक्त्र—(पुं.) शिशुपाल के भाई
 का नाम जिसको श्रीकृष्ण ने मारा
 था; -वल—(पुं.) हाथी; -वल्क—
 (पुं.) मसूड़ा; -वस्त्र, -वासस्—(पुं.)
 ओष्ठ, ओठ; -विधृति—(पुं.) दाँत
 का एक रोग; -वीज—(पुं.) दाडिम,
 अनार; -वीणा—(स्त्री.) दाँत में
 लगाकर बजाने की एक प्रकार की
 वीणा; -वैदना—(स्त्री.) दाँत की
 पीड़ा; -वेष्ट—(पुं.) दाँतों का एक
 रोग; -व्यसन—(पुं.) दाँतों का नष्ट
 होना; -शंक्रु—(पुं.) प्राचीन काल का
 दाँत उखाड़ने का एक प्रकार का
 अस्त्र; -शठ—(पुं.) जँभीरी नीवू,
 कैथ, कमरख, नारंगी, खटाई; -शठा—
 (स्त्री.) खट्टी लोनिया; -शर्करा—
 (स्त्री.) दाँतों पर मैल जम जाने से
 उत्पन्न रोग; -शाण—(पुं.) दाँतों में
 लगाने की एक प्रकार की मिस्सी;
 -शिरा—(स्त्री.) मसूड़ा; -शुद्धि—(स्त्री.)
 दाँतों की स्वच्छता; -शल—(पुं.) दाँत
 की पीड़ा; -शोथ—(पुं.) मसूड़े में
 होनेवाला फोड़ा; -संघर्ष—(पुं.) दाँत
 किरकिराना; -हर्ष—(पुं.) दाँत का
 एक रोग जिसमें ठंडी या गरम वस्तु
 के दाँतों से स्पर्श होने पर बड़ा कष्ट
 होता है; -हर्षक—(पुं.) जँभीरी नीवू ।
 दंतांतर—(सं. पुं.) दाँत का मध्य ।
 दंताग्र—(सं. पुं.) दाँत की नोक या अग्रभाग ।
 दंताघात—(सं. पुं.) दाँत का आघात
 या चोट ।

दंतादंति—(सं. स्त्री.) एक दूसरे को दाँत से काटने का युद्ध ।
 दंताद—(सं.पुं.) दाँतों में कीड़े पड़ने का रोग ।
 दंतायुध—(सं. पुं.) शूकर, सूअर ।
 दंताद्वंद—(सं.पुं.) मसूड़े में होनेवाला फोड़ा ।
 दंतालिका, दंताली—(सं.स्त्री.) घोड़े की लगाम ।
 दंतावल—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी ।
 दंतिका, दंतिजा—(सं. स्त्री.) दन्तीवृक्ष, जमालगोटा ।
 दंतिदंत—(सं. पुं.) हाथी के दाँत ।
 दंतिनी—(सं. स्त्री.) जमालगोटा ।
 दंती—(सं. स्त्री.) हाथी, अंडी की जाति का एक वृक्ष; -फल—(पुं.) पिप्पली, छोटी पीपल ।
 दंतुर, दंतुला—(सं.वि.) जिसके दाँत आगे की ओर निकले हों, हाथी, शूकर, सूअर ।
 दंतुरच्छद—(सं. पुं.) विजौरा नीवू ।
 दंतोच्छिष्ट—(सं. वि.) दाँत से जठा किया हुआ ।
 दंतोत्पाटन—(सं. पुं.) दाँत उखाड़ना ।
 दंतोद्भद—(सं. पुं.) दाँत का निकलना ।
 दंतोष्ठ्य—(सं. पुं.) वह वर्ण जिसका उच्चारण दाँत और ओठ से हो ।
 दंत्य—(सं. वि.) जिसका उच्चारण दाँत की सहायता से हो, तवर्ग ।
 दंश—(सं. पुं.) दन्त, दाँत ।
 दंशक—(सं. पुं.) सर्प, राक्षस; (वि.) हिंसा करनेवाला ।
 दंशमान—(सं. वि.) दहकता हुआ ।
 दंश—(हि. स्त्री.) गरमी, ताप, ताप की अनुभूति ।
 दंशाना—(हि.क्रि.अ.) गरमाहट का अनुभव होना, जाड़ा न लगना ।
 दंशरू—(हि. पुं.) छाला, फफोला ।
 दंपति—(हि. पुं.) देख 'दंपती' ।
 दंपती—(सं. पुं.) पति-पत्नी ।
 दंभ—(सं. पुं.) ढकोसला, पाखंड, आडंबर, अभिमान, कपट, शाठ्य ।
 दंभक—(सं. वि., पुं.) पाखंडी, अभिमानी ।
 दंभन—(सं. पुं.) ढोंग, पाखंड, अभिमान ।
 दंभी—(सं. वि.) दंभ से युक्त, दंभ करनेवाला, पाखंडी, अभिमानी ।
 दंवी—(हि. स्त्री.) अनाज के डंठलों पर वैलों को चलाकर अन्न और मूसा अलगाना ।
 दंवारि—(हि. स्त्री.) देखें 'दावाग्नि' ।
 दंश—(सं. पुं.) गोमक्षिका, एक प्रकार का कीड़ा जो विष्ठा, मूत्र आदि से उत्पन्न होता है, दाँत से काटने की क्रिया,

साँप के काटने का घाव, दाँत चुमने से उत्पन्न घाव, द्वेष, वैर, दाँत, विपैले कीड़ों के डंक, आक्षेप-वचन, कटूक्ति, कवच; -क—(पुं.) डाँस नाम की मक्खी; (वि.) दाँत से काटनवाला; -न—(पुं.) दाँत से काटना, डँसना; -नाशिनी—(स्त्री.) एक प्रकार का तेल का कीड़ा; -भीर—(पुं.) महिष, भैंस; -सूल—(पुं.) सहजन का वृक्ष; -वदन—(पुं.) सफेद चील ।
 दंशिका—(सं. स्त्री.) वनमक्षिका, डाँस ।
 दंशित—(सं. वि.) दाँत से काटा हुआ, कवच आदि से ढपा हुआ ।
 दंशी—(सं.स्त्री.) छोटा डाँस; (वि.) काटनेवाला, व्यंग्य बोलनेवाला, द्वेष करनेवाला ।
 दंशक—(सं. वि.) डँसनेवाला ।
 दंशर—(सं. वि.) अपकार करनेवाला ।
 दंष्ट्र—(सं. पुं.) दाँत, सूकर, सुअर ।
 दंष्ट्रा—(सं. स्त्री.) दाढ़, चौभड़, विच्छुआ नामक पौधा ।
 दंष्ट्रायुध—(सं. पुं.) वराह, सूअर ।
 दंष्ट्राल—(सं. वि.) बड़े-बड़े दाँतोंवाला ।
 दंष्ट्राविष—(सं.वि.) वह सर्प जिसके दाँत में विष रहता है ।
 दंष्ट्रास्त्र—(सं. पुं.) वराह, सूअर ।
 दंष्ट्रिका—(सं. स्त्री.) दाढ़, चौभड़ ।
 दंष्ट्री—(सं. पुं.) शूकर, सूअर; (वि.) बड़े-बड़े दाँतोंवाला ।
 दंस—(हि. पुं.) देखें 'दंश' ।
 दंसना—(सं. स्त्री.) कर्म, काम ।
 दंसु—(सं. पुं.) अलौकिक शक्ति ।
 दइत—(हि. पुं.) देखें 'दैत्य' ।
 दई—(हि. पुं.) भाग्य, दैव, विवाता; -दई—(अव्य.) ईश्वर की दुहाई वाचक पद; -मारा—(वि.) दैव का मारा हुआ, हतभाग्य ।
 दक—(सं. पुं.) उदक, जल, पानी ।
 दकारांत—(सं.वि.) जिसके अन्त में 'द' हो ।
 दकार—(सं.पुं.) तवर्ग का तीसरा अक्षर 'द' ।
 दकारादि—(सं.वि.) जिसके आदि में 'द' हो ।
 दक्रियानुसी—(हि.वि.) प्राचीन, पुराना ।
 दक्रोदर—(सं.पुं.) एक प्रकार का पेट का रोग ।
 दक्खिन—(हि. पुं.) सूर्य की ओर मुख करके खड़े होने पर दाहिने हाथ की ओर पड़नेवाली दिशा, भारत के दक्षिण की ओर का भाग ।
 दक्खिनी—(हि. वि.) जो दक्षिण दिशा में हो; (पुं.) दक्षिण देश का रहनेवाला ।
 दक्ष—(सं. पुं.) बल, अत्रि ऋषि, शिव का वैल, महेश्वर, विष्णु, एक प्रजापति का नाम; (वि.) निपुण, चतुर, कुशल,

सुगमता से काम करनेवाला, दक्षिण भाग का; -कन्या—(स्त्री.) दक्ष की पुत्री सती जिसका विवाह शिव से हुआ था; -ऋतु—(पुं.) दक्ष का वह यज्ञ जिसमें शिव नहीं बुलाये गये थे; -जा—(स्त्री.) दक्ष की कन्या सती, दुर्गा; -०पति—(पुं.) महादेव; -तनया—(स्त्री.) दक्ष प्रजापति की कन्या दुर्गा, अदिवनी, नक्षत्र; -ता—(स्त्री.) निपुणता, पटुता, योग्यता; -पति—(पुं.) जिसको सब से अधिक बल हो; -यज्ञ—(पुं.) दक्ष प्रजापति द्वारा किया गया यज्ञ; -बिहिता—(स्त्री.) एक गीत का नाम; (वि.) दक्ष द्वारा किया हुआ; -सुत—(पुं.) देवता ।
 दक्षा—(सं. स्त्री.) पृथ्वी ।
 दक्षाद्य—(सं. पुं.) गरुड़ पक्षी, गुध्र ।
 दक्षिण—(सं. पुं.) उत्तर के सामने की दिशा, अपसव्य, दाहिना भाग; विष्णु, दक्षिणाग्नि, वह नायक जिसका प्रेम अपने सब नायिकाओं पर समान हो, तन्त्रोक्त आचारविशेष, दक्षिण देव; (वि.) अनुकूल, निपुण, चतुर, दक्ष, समर्थ ।
 दक्षिण कालिका—(सं.स्त्री.) कालिका देवी ।
 दक्षिण गोल—(सं. पुं.) दे छ: रशियाँ जो विपुवत् रेखा के दक्षिण में हैं ।
 दक्षिण तीर—(सं.पुं.) दाहिना किनारा ।
 दक्षिण दिक्—(सं. स्त्री.) दक्षिण दिशा ।
 दक्षिणधुरीण—(सं. स्त्री.) रथ के दाहिने ओर का घोड़ा ।
 दक्षिणपश्चात्—(सं. अव्य.) नैऋत्य-कोण में दक्षिणपश्चिम—(सं.स्त्री.) नैऋत्य कोण ।
 दक्षिणपूर्वक—(सं. पुं.) अग्निकोण ।
 दक्षिणमानस—(सं. पुं.) गया के दक्षिण के एक तीर्थ का नाम ।
 दक्षिणमेरु—(सं. पुं.) दक्षिण केन्द्र या ध्रुव ।
 दक्षिणसमुद्र—(सं.पुं.) भारत के दक्षिणका समुद्र ।
 दक्षिणस्थ—(सं. स्त्री.) वह सारथी जो रथ के दाहिनी ओर हो; (वि.) जो दाहिनी ओर या दक्षिण में हो ।
 दक्षिणांतिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का वतालीय छन्द ।
 दक्षिणा—(सं. स्त्री.) दक्षिण दिशा, प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कार, नट या ब्राह्मण को दिया जानेवाला दान, वह नायिका जो नायक के अन्य स्त्रियों पर आसक्त होने पर भी उससे पहिले की तरह प्रेम करती है; -कपर्द—(पुं.) ऋषि वसिष्ठ का नाम; -काल—(पुं.) दक्षिणा देने का समय ।
 दक्षिणाग्नि—(सं. पुं.) वह अग्नि जो यज्ञ में दक्षिण की ओर स्थापित की जाती है ।

दक्षिणाचल—(सं.पुं.) मलयपर्वत, मलयाचल ।
 दक्षिणाचार—(सं.पुं.) एकतन्त्रोक्त आचार ।
 दक्षिणाधय—(सं.पुं.) दक्षिण की ओर जाने का मार्ग, विन्ध्य पर्वत के दक्षिण का प्रदेश ।
 दक्षिणापरा—(सं. स्त्री.) नैर्ऋत्य कोण ।
 दक्षिणाभिमुख—(सं. वि.) जिसका मुख दक्षिण की ओर हो ।
 दक्षिणामूर्ति—(सं. पुं.) तन्त्र के अनुसार शिव की एक मूर्ति ।
 दक्षिणायन—(सं. पुं.) सूर्य की दक्षिण की ओर गति, सूर्य की कर्क रेखा से दक्षिण मकर रेखा की ओर गति; (वि.) भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर का ।
 दक्षिणारण्य—(सं. पुं.) एक जंगल का नाम जो भारत के दक्षिण में है ।
 दक्षिणार्ह—(सं. पुं.) वह जो दक्षिण के उपयुक्त हो ।
 दक्षिणावर्त—(सं. वि.) जो दक्षिण की ओर घूमा हुआ हो, दक्षिण देश संबंधी; (पुं.) वह शंख जिसका भीतरी घुमाव दाहिनी ओर हो ।
 दक्षिणावह—(सं. पुं.) दक्षिण की ओर से आनेवाली वायु ।
 दक्षिणाशा—(सं. स्त्री.) दक्षिण दिशा; -पति—(पुं.) मंगल ग्रह ।
 दक्षिणी—(हि. स्त्री.) दक्षिण देश की भाषा; (पुं.) मराठी; (वि.) दक्षिण देश-संबंधी ।
 दक्षिणीय—(सं. वि.) जो दक्षिण का पात्र हो, दक्षिण संबंधी ।
 दक्षिणोत्तर—(सं. वि.) दाहिन से इतर, वांया ।
 दक्षिण्य—(सं. वि.) जो दक्षिण का पात्र हो ।
 दखमा—(हि. पुं.) पारसियों का शव रखने का स्थान ।
 दखल—(अ. पुं.) अधिकार, भू-संपत्ति पर कब्जा, हस्तक्षेप, प्रवेश ।
 दखल-दिहानी—(अ. स्त्री.) विधिक आदेश के द्वारा भू-संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करना ।
 दखल-नामा—(अ. पुं.) वह विधिक आज्ञा-पत्र, डिगरी आदि जिसके द्वारा जमीन, घर आदि पर कब्जा प्राप्त किया जाय ।
 दखिन—(हि. पुं.) देखें 'दक्षिण' ।
 दखिनहा—(हि. वि., पुं.) दक्षिण का, दक्षिणी ।
 दखीलकार—(अ. पुं.) कृषि-भूमि पर स्थायी स्वत्व-प्राप्त भूमिघर या किसान ।
 दखीलकारी—(अ. स्त्री.) दखीलकार का पद, अधिकार, खेत आदि ।
 दगड़—(हि. पुं.) बड़ा ढोल जो लड़ाई के मैदान में बजाया जाता है ।
 दगदगाना—(हि. क्रि. अ., स.) चमकना, दमकना, दमकाना, चमकाना ।

दगदगाहट—(हि. स्त्री.) चमक-दमक ।
 दगदगी—(हि. स्त्री.) भय, सन्देह ।
 दगध—(हि. पुं.) दाह-क्रिया, दग्धा ।
 दगधना—(हि. क्रि. अ., स.) जलना, जलाना, दुःख देना ।
 दगना—(हि. क्रि. अ.) बन्दूक या तोप का छूटना, दागा जाना, दग्ध होना, जलना ।
 दगर, दगरा—(हि. पुं.) विलम्ब, देर, मार्ग, डगर, रास्ता ।
 दगरी—(हि. स्त्री.) बिना मलाई का दही ।
 दगल—(हि. पुं.) देखें 'दगला' ।
 दगला—(हि. पुं.) रूईदार अथवा मोटे कपड़े का बना हुआ अंगरखा ।
 दगवाना—(हि. क्रि. स.) दागने के काम में किसी दूसरे को लगाना ।
 दगहा—(हि. वि.) दागवाला, जिसमें सफेद दाग हो, जिसने मृतक का दाह-कर्म किया हो, दग्ध किया हुआ, दागा हुआ ।
 दगा—(फा. स्त्री.) छल-कपट, धोखा, फरेब, विश्वासघात ।
 दगावाज—(फा. वि.) धोखा देनेवाला, कपटी ।
 दगावाजी—(फा. स्त्री.) धोखा, दगा, विश्वासघात ।
 दगल—(हि. वि.) जिसमें कुछ दोष या दाग हो; (पुं.) छली, कपटी ।
 दग्ध (सं. वि.) जला हुआ, जलाया हुआ, जिसका हृदय दग्ध हुआ हो, पीड़ित, दुःखित; -काक—(पुं.) द्रोणकाक, डोम-कौवा; -रथ—(पुं.) इन्द्र के एक सारथी का नाम ।
 दग्धा—(सं. स्त्री.) सूर्य के अस्त होने की दिशा, पश्चिम दिशा, अशुभ तिथियाँ, राशि-भेद युक्त कुछ तिथियों के नाम, यथा-रविवार की द्वादशी, सोमवार की एकादशी इत्यादि ।
 दचक—(हि. स्त्री.) दबाव या झटके से लगी हुई चोट, दबाव, धक्का ।
 दचना—(हि. क्रि. अ.) गिरना-पड़ना ।
 दच्छ—(हि. पुं.) देखें 'दक्ष' ।
 दक्षकुमारी—(स्त्री.) देखें 'दक्षकन्या' ।
 दच्छिना—(हि. स्त्री.) देखें 'दक्षिणा' ।
 दच्छ-सुता—(हि. स्त्री.) देखें 'दक्षकन्या' ।
 दच्छिन—(हि. पुं, वि.) देखें 'दक्षिण' ।
 दड़ौकना—(हि. क्रि. अ.) बाध, साँड़ इत्यादि पशुओं का बोलना ।
 दड़ना—(हि. क्रि. अ.) जलना ।
 दड़ियल—(हि. वि.) दाढ़ीवाला ।
 ददुअन, ददुवन—(हि. स्त्री.) नीम आदि की पतली ताजी टहनी जिसे दाँतों से

कूंचकर दाँत साफ करते ह, सवरे के समय दाँत साफ करने की क्रिया ।
 दत्त—(सं. वि.) रक्षित, वचाया हुआ, दान किया हुआ; (पुं.) दान, एक ऋषि का नाम, एक वैश्य जाति ।
 दत्तक—(सं. पुं.) गोद लिया हुआ लड़का; -पुत्र—(पुं.) देखें 'दत्तक' ।
 दत्तचित्त—(सं. वि.) जिसका चित्त किसी ओर लगा हो ।
 दत्तप्राण—(सं. वि.) जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किये हों ।
 दत्तवर—(सं. वि.) जिसे ईश्वरीय वर-दान या महानता प्राप्त हो ।
 दत्तहस्त—(सं. वि.) जिसे अमयदान का सहारा दिया गया हो ।
 दत्तात्मा—(सं. पुं.) वह जिसने अपना पैत्रिक स्वत्व अपनी पैत्रिक संपत्ति पर से छोड़ दिया हो ।
 दत्तात्रेय—(सं. पुं.) एक ऋषि जो विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं ।
 दत्तावधान—(सं. वि.) एकाग्रचित्त, सावधान ।
 दत्तासन—(सं. वि.) जिसको आसन दिया गया हो ।
 दत्तिक—(सं. वि.) अल्पदत्त, जो थोड़ा दिया हुआ हो ।
 दत्ती—(हि. स्त्री.) दृढ़ संबंध, सगाई का पक्का होना ।
 दत्तय—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 दत्तोपनिषद्—(सं. स्त्री.) एक उपनिषद् का नाम ।
 ददन—(सं. पुं.) दान ।
 ददरा—(हि. पुं.) छानने का कपड़ा, छत्रा ।
 ददरी—(हि. स्त्री.) तमाखू के पत्ते पर पड़ा हुआ चिह्न, एक विशाल मेला जो कार्तिक पूर्णिमा को बलिया के समीप लगता है ।
 ददा—(हि. पुं.) देखें 'दादा' ।
 ददिया ससुर—(हि. पुं.) ससुर का पिता, पत्नी या पति का दादा ।
 ददिया सास—(हि. स्त्री.) पति या पत्नी की दादी ।
 ददिहाल—(हि. पुं.) दादा का कुल, दादा का घर ।
 ददोरा—(हि. पुं.) शरीर पर वह चकत्ता या चकोता जो मच्छर, बर्र आदि के काटने से पड़ता है ।
 दद्रु—(सं. पुं.) कच्छप, कछुवा, दाद का रोग ।
 दद्रुक—(सं. पुं.) दद्रु, दाद का रोग ।
 दद्रुण—(सं. पुं.) चकवड़ का पौधा ।
 दद्रुण—(सं. वि.) जिसको दाद का रोग हुआ हो ।

दू, दूण—(सं. पूं.) दाद का रोग ।
 दध—(हिं. पूं.) देखें 'दधि', दही ।
 दधसार—(हिं. पूं.) दही का सत्व या सार ।
 दधि—(सं. पूं.) जमाया हुआ दूध, दही,
 वस्त्र, कपड़ा; (हिं. पूं.) समुद्र, सागर ।
 दधिक—(सं. पूं.) सलाई का पेड़ ।
 दधिकाँदो—(हिं. पूं.) जन्माष्टमी के दूसरे
 दिन होनेवाला एक उत्सव जिसमें लोग
 दही में हल्दी मिलाकर एक दूसरे पर
 फेंकते हैं ।
 दधिका—(सं. पूं.) अश्व, घोड़ा ।
 दधिकचिका—(सं. स्त्री.) छेना ।
 दधिप्रास—(सं. पूं.) श्रीकृष्ण का एक लीला-
 स्थान ।
 दधिचार—(सं. पूं.) दही मथने की मथानी ।
 दधिज—(सं. पूं.) नवनीत, मक्खन ।
 दधिजात—(सं. पूं.) मक्खन, चन्द्रमा ।
 दधित्य, दधिनामा—(सं. पूं.) कपित्थ, कैथ ।
 दधिपुष्पी—(सं. स्त्री.) ज्योतिष्मती लता ।
 दधिपूप—(सं. पूं.) एक प्रकार का पक्वान्न ।
 दधिफल—(सं. पूं.) कपित्थ, कैथ ।
 दधिभव—(सं. पूं.) नवनीत, मक्खन ।
 दधिमंड—(सं. पूं.) दही का पानी ।
 दधिमुख—(सं. पूं.) सुग्रीव के मामा का नाम ।
 दधियार—(हिं. पूं.) अर्कपुष्पी नामक लता ।
 दधिलह—(सं. पूं.) दही के ऊपर की मलाई ।
 दधिवत्—(सं. वि.) दही मिलाया हुआ ।
 दधिवारि—(सं. पूं.) दही का पानी ।
 दधिवास्तुका—(सं. स्त्री.) गोदन्ती, हर-
 ताल, जवासा ।
 दधिवाहन—(सं. पूं.) राजा अंग के पुत्र का
 नाम ।
 दधिशीण—(सं. पूं.) सफेद बन्दर ।
 दधिसक्तु—(सं. पूं.) दही मिला हुआ सत्तु ।
 दधिसर—(सं. पूं.) दही के ऊपर की मलाई ।
 दधिसार—(सं. पूं.) नवनीत, मक्खन ।
 दधिसुत—(हिं. पूं.) कमल, मोती, चन्द्रमा,
 विष; (सं. पूं.) नवनीत, मक्खन ।
 दधिसुता—(हिं. स्त्री.) शक्ति, सीप ।
 दधिस्नह—(सं. पूं.) दही पर की मलाई ।
 दधिस्वेद—(सं. पूं.) तक्र, छाछ, मठा ।
 दधीच—(सं. पूं.) शुक्राचार्य के पुत्र का नाम ।
 दधीचि—(सं. पूं.) शुक्राचार्य के पुत्र,
 (वृत्रासुर को मारने के लिए उनकी
 हड्डी माँगी गई थी। इस निमित्त उन्होंने
 अपने प्राण त्याग दिये थे। तबसे इनकी
 गणना सबसे बड़े दानियों में की जाती है ।)
 दधीच्यस्थि—(सं. पूं.) दधीचि की हड्डी,
 चञ्ज, हीरा ।
 दधीमुख—(सं. पूं.) एक बन्दर का नाम ।

दध्न—(सं. पूं.) चौदह यमों में से एक ।
 दध्यन्न—(सं. पूं.) दही मिला हुआ अन्न ।
 दध्यानी—(सं. स्त्री.) सुदर्शन का पौधा ।
 दध्योदन—(सं. पूं.) दही मिला हुआ मात ।
 ददनाना—(हिं. क्रि. अ.) दनदन शब्द
 करना, आनन्द करना ।
 दनादन—(हिं. अव्य.) दनदन शब्द के साथ,
 जल्दी-जल्दी ।
 दनु—(सं. स्त्री.) दक्ष की एक कन्या का
 नाम जिसका विवाह कश्यप ऋषि से
 हुआ था, (इनके चालीस पुत्र थे। ये
 सब दानव कहलाये ।)
 दनुज—(सं. पूं.) असुर, राक्षस; -दलनी-
 (स्त्री.) असुरों का नाश करनेवाली दुर्गा;
 -राय—(हिं. पूं.) हिरण्यकशिपु ।
 दनुजारि—(सं. पूं.) दनुजशत्रु, देवता ।
 दनुजोद्ग—(सं. पूं.) दानवों का राजा रावण ।
 दनुजेश—(सं. पूं.) हिरण्यकशिपु, रावण ।
 दनुष—(सं. पूं.) रावण ।
 दनुसंभव, दनुसुनु—(सं. पूं.) दनु के पुत्र,
 राक्षस ।
 दन्न—(हिं. पूं.) तोप आदि के छूटने का शब्द ।
 दपट—(हिं. स्त्री.) डपट, घुड़की ।
 दपटना—(हिं. क्रि. स.) डपटना ।
 दपु—(हिं. पूं.) अहंकार, घमंड ।
 दपेट—(हिं. स्त्री.) देखें 'दपट' ।
 दपेटना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'दपटना' ।
 दफन—(अ. पूं.) गाड़ना, मुरदे को कब्र में
 गाड़ना ।
 दफनाना—(हिं. क्रि. स.) दफन करना, गाड़ना ।
 दफा—(हिं. स्त्री.) वार, कानून का कोई एक
 नियम जो संखित होता है, धारा ।
 दफतर—(अ. पूं.) कार्यालय ।
 दफतरी—(अ. पूं.) दफतर के कागज-पत्रों
 की जिल्दबंदी करनेवाला ।
 दफती—(फा. स्त्री.) मोटा कड़ा कागज ।
 दवंग—(हिं. वि.) दवदवावाला, प्रभावशाली ।
 दवक—(हिं. स्त्री.) छिपने का भाव, दबने
 की क्रिया, सिकुड़न, धातु को पीटकर
 लंबा करने की क्रिया ।
 दवकार—(हिं. पूं.) धातु का तार बनाने-
 वाला ।
 दवकाना—(हिं. क्रि. अ.) डर के मारे संकु-
 चित स्थान में छिपना, लुकना,
 धातु को पीटकर बढ़ाना, डिटना,
 डपटना ।
 दवकनी—(हिं. स्त्री.) भाभी का छिद्र
 जिससे हवा भीतर जाती है ।
 दवकवाना—(हिं. क्रि. स.) दवकान में किसी
 दूसरे को प्रवृत्त करना ।

दवका—(हिं. पूं.) कामदानी का चिपटा तार ।
 दवकाना—(हिं. क्रि. स.) ढपना, छिपाना,
 छिपाकर रखना डपटना ।
 दवकी—(हिं. स्त्री.) सुराही के आंकार का
 मिट्टी का पात्र, बरतन, दवकने की क्रिया ।
 दवकैया—(हिं. पूं.) सोना-चाँदी के खंडों
 को पीटकर बढ़ानेवाला ।
 दवगर—(हिं. पूं.) चमड़े के कुप्पे या ढाल
 बनानेवाला ।
 दवना—(हिं. क्रि. स.) भार के नीचे आना,
 दाव के नीचे पड़ना, ऐसी अवस्था में
 होना जब कुछ बस न चले, किसी वस्तु
 का दूसरे के अधिकार में अनुचित रीति
 से चला जाना, शान्त रहना, संकोच
 करना, धीमा पड़ना, अच्छा न जान
 पड़ना, किसी के दवाव से विवश होना,
 अपने स्थान पर टिका न रहना, किसी
 और अधिक भार होना, किसी बात का
 जहाँ का तहाँ रह जाना, मन्द पड़ना;
 (मुहा.) दबीजवान से कहना—किसी बात
 को स्पष्ट न कहना; ऐसे शब्दों में कहना
 जिससे सच्ची बात या तथ्य की कुछ
 झलक आती हो ।
 दवमो—(हिं. पूं.) हिमालय पर्वत का एक
 प्रकार का वकरा ।
 दववाना—(हिं. क्रि. स.) दवाने के काम में
 दूसरे को लगाना ।
 दवस—(हिं. पूं.) जहाजी माल की रसीद ।
 दवाई—(हिं. स्त्री.) दवाने का कार्य ।
 दवाई—(हिं. वि.) दवानेवाला, जिसका
 पिछला भाग आगे के भाग से भारी हो ।
 दवाना—(हिं. क्रि. स.) किसी पदार्थ को
 नीचे की ओर घसाने के लिए ऊपर भार
 देना, किसी पदार्थ पर बहुत जोर
 लगाना, भार के नीचे रखना, किसी
 बात को फूलने न देना, गुप्त रखना,
 दूसरे के गुणों को या महत्त्व को छिपा
 रखना, विवश करना, धरती में गाड़ना,
 अपने स्थान से पीछे हटना, अनु-
 चित रीति से किसी का माल ले लेना,
 तेज दौड़कर आगे की वस्तु को पकड़ना,
 किसी को असहाय अवस्था में लाना,
 दमन करना, शान्त करना ।
 दवाव—(हिं. पूं.) लकड़ी का बना हुआ
 लंबा-चौड़ा सन्दूक, दवाने की क्रिया,
 चाँप, प्रताप ।
 दबीज—(फा. वि.) मोटा, गाढ़ा, मजबूत,
 गफ, ठस ।
 दवाल—(हिं. वि.) जो किसी के प्रभाव या
 दवाव में हो, बहुत दबनेवाला, दबू ।

द्वोचना—(हि.क्रि.स.) किसी को अकस्मात् पकड़कर दवा लेना, छिपाना, घर दवाना।
द्वोनी—(हि.स्त्री.) वरतनों पर फूल-पत्ती उभाड़ने या नक्काशी करने का एक औजार।
दम—(सं.पुं.) दंड, दमन, इंद्रियों को वश में करना, कीचड़, घर, एक प्राचीन ऋषि का नाम, विष्णु, दयमन्ती के एक भाई का नाम, वृद्ध का एक नाम।
दम—(फा.पुं.) साँस, श्वास, जनि, प्राण, जीवन, जिदगी, हुक्के आदि का कश, समय, वक्त।
 (मुहा.)—**अटकना**—श्वास का रुकना;—**घुटना**—श्वास-नलिका के अवरोध से साँस लेना-छोड़ना बंद होना;—**टूटना**—हाँफने लगना;—**निकलना**—प्राण निकलना;—**फूलना**—साँस फूलना;—**मारना**—सुस्ताना;—**लेना**—दम मारना, अवकाश लेना।
दमआलू—(हि.पुं.) आलू की मसालेदार तरकारी।
दमकल—(पुं.) आग बुझाने का प्रसिद्ध मीटर, यंत्र आदि।
दमक—(सं.वि.) दम करनेवाला, शासनकर्ता; (हि.स्त्री.) द्युति, चमक, चम-चमाहट।
दमकना—(हि.क्रि.अ.) चमकना, चम-चमाना।
दमकला—(हि.स्त्री.) वह यन्त्र जिसके द्वारा पानी या गुलाबजल का फीवारा बड़े वेग से दूर तक फेंका जाता है; एक बड़ा पात्र जिसमें पिचकारी लगी होती है, (इससे बड़ी महफिलों में गुलाब-जल या रंग छिड़का जाता है), बड़ी अंगीठी जो दमकल के आकार की होती है, देखें 'दमचूल्हा'।
दमचूल्हा—(हि.पुं.) एक प्रकार का लोहे का बना चूल्हा जिसके बीच में जाली होती है और बगल में हवा जाने के लिए एक बड़ा छेद होता है।
दमड़ी—(हि.स्त्री.) एक पैसे का आठवाँ भाग।
दमदार—(फा.वि.) जिसमें दम या शक्ति अधिक हो।
दम-दिलासा—(फा.पुं.) आशा, वहकावा।
दमन—(सं.पुं.) दवाने की क्रिया, दंड, इंद्रियों की चंचलता को रोकना, कुन्द का पुष्प या वृक्ष, शिव, महादेव, विष्णु, एक ऋषि का नाम; (वि.) दमन करनेवाला।
दमनक—(सं.पुं.) एक प्रकार का पौधा, दीना, एक छन्द का नाम जिसके प्रत्येक चरण में छः अक्षर होते हैं।

दमनशील—(सं.वि.) जिसकी प्रकृति दमन करने की हो, दमन करनेवाला।
दमना—(हि.क्रि.स.) दमन करना।
दमनी—(सं.स्त्री.) अग्निदमनी नामक पौधा; (हि.स्त्री.) संकोच, लज्जा।
दमनीय—(सं.वि.) दमन करने योग्य, जो दबाया जा सके।
दमाद—(हि.पुं.) जामाता, कन्या का पति।
दमादम—(हि.अव्य.) दम-दम शब्द के साथ, लगातार, बराबर।
दमानक—(हि.स्त्री.) तोपों की बाढ़।
दमारि—(हि.पुं.) वन की आग।
दमाह—(हि.पुं.) वैल का श्वास-रोग।
दमित—(सं.वि.) वश में किया हुआ, कष्ट सहनेवाला।
दमी—(सं.वि.) दमन करनेवाला; (हि.वि.) दम लगानेवाला, गाँजा पीनेवाला।
दमैया—(हि.वि.) दमन करनेवाला।
दमोड़ा—(हि.पुं.) मूल्य।
दमोदर—(हि.पुं.) देखें 'दामोदर'।
दम्य—(सं.वि.) दमनीय, दमन करने योग्य।
दय—(सं.पुं.) दया, कृपा, करुणा।
दया—(सं.स्त्री.) वह दुःखपूर्ण भावना जो किसी मनुष्य के मन में दूसरे को कष्ट में देखकर उत्पन्न होता है और वह उस कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता है, करुणा, दक्ष की एक कन्या जिसका विवाह धर्म से हुआ था, अलंकार में शान्त रस का व्यभिचारी भाव।
दयादृष्टि—(सं.स्त्री.) किसी के प्रति करुणा या अनुग्रह का भाव।
दयाना—(हि.क्रि.अ.) दयालु होना, कृपा करना।
दयानिधान—(सं.पुं.) अति दयालु पुरुष।
दयानिधि—(सं.पुं.) वह मनुष्य जिसके चित्त में बहुत दया हो, ईश्वर का एक नाम।
दयापात्र—(सं.पुं.) वह जिस पर दया करना उचित हो।
दयामय—(सं.वि.) दया से पूर्ण, अत्यन्त दयालु; (पुं.) ईश्वर का एक नाम।
दयार्द्र—(सं.वि.) दयापूर्ण, दयालु।
दयाल—(हि.वि.) दयालु, कृपालु।
दयालु—(सं.वि.) दयायुक्त, दयावान्, कृपालु।
दयालुता—(सं.स्त्री.) दया करने की प्रवृत्ति, दयालु होने का भाव।
दयावंत—(हि.वि.) दयायुक्त, दयालु।
दयावती—(सं.वि.स्त्री.) दया करनेवाली।
दयावान—(हि.वि.) दया करने योग्य,

दयावान्, दीन।
दयावान्—(हि.वि.) जिसके चित्त में दया हो, कृपालु।
दयावीर—(सं.पुं.) वह मनुष्य जो दूसरे के दुःख को दूर करने के लिए प्राण तक दे सकता है, दयायुक्त, नायक।
दयाशील—(सं.वि.) दयावान्, कृपालु।
दयासागर—(सं.पुं.) जिसके चित्त में अगाध दया हो, अत्यन्त दयालु मनुष्य।
दयित—(सं.पुं.) पति; (वि.) प्रियतम, प्यारा।
दयिता—(सं.स्त्री.) पत्नी, भार्या।
दयिताधीन—(सं.पुं.) स्त्री के वशीभूत, जोरू का गुलाम।
दयित्तु—(सं.वि.) दयाशील, दयालु।
दर—(सं.पुं.) शंख, गदा, भय, कन्दरा, पहाड़ की गुफा।
दर—(हि.पुं.) सेना, समूह, दल, स्थान; (स्त्री.) भाव, निर्वह, प्रतिष्ठा, कद्र, ठिकाना, (वि.) विदारक; थोड़ा-सा।
दर—(फा.पुं.) द्वार, दरवाजा, फाटक, दहलीज; (मुहा.)—**दर मारा फिरना**—दुर्दशा में पड़कर इधर-उधर भटकना।
दरक—(सं.वि.) डरपोक, कायर, भीरु; (हि.स्त्री.) दरार जो दाव पड़ने से उत्पन्न होती है।
दरकच—(हि.स्त्री.) वह चोट जो रगड़ जाने या चोट लगने से उत्पन्न हो, कुचल जाने से लगी हुई चोट।
दरकटी—(हि.स्त्री.) किसी वस्तु के भाव का ठहराव।
दरकना—(हि.क्रि.अ.) विदीर्ण होना, दबाव से फट जाना, चिरना।
दरका—(हि.पुं.) विदीर्ण होने का चिह्न, दरार, वह चोट जिससे कोई वस्तु फट जाय।
दरकाना—(हि.क्रि.अ.,स.) फटना, फाड़ना।
दरकार—(फा.स्त्री.) आवश्यकता, जरूरत।
दरकारी—(फा.वि.) आवश्यक, जरूरी।
दरकिनार—(फा.वि.) अलग, अलहदा, एक ओर।
दरकूच—(फा.वि.) मंजिल पर मंजिल पार करता हुआ।
दरखास्त—(फा.स्त्री.) प्रार्थना, प्रार्थना-पत्र, निवेदन।
दरख्त—(फा.पुं.) पेड़, वृक्ष।
दरगाह—(फा.स्त्री.) द्वार, दरवाजा, किसी प्रसिद्ध फकीर का मकबरा।
दरज—(हि.स्त्री.) दरार, चीर।
दरजन—(हि.पुं.) वारह का समूह, दर्जन।

दरजा—(हि. पूं.) स्थिति, लोहा ढालने का एक प्रकार का यन्त्र, देखें 'दर्जा'।
 दरजिन—(हि. स्त्री.) दर्जी की स्त्री।
 दरजी—(हि. पूं.) कपड़े सीने का काम करनेवाला, दर्जी।
 दरण—(हि. पूं.) ध्वंस, नाश, पीसने की क्रिया।
 दरद—(सं. पूं.) इंगुर, सिंगरफ, खर्पर, खपरिया, एक म्लेच्छ जाति का नाम, कश्मीर और हिन्दूकुश पर्वत के बीच के प्रदेश का नाम।
 दरद—(हि. स्त्री.) दर्द, पीड़ा, व्यथा, दया।
 दरदरा—(हि. वि.) जिसके कण मोटे हों, जो महीन न पीसा गया हो।
 दरदराना—(हि. क्रि. अ.) बहुत महीन न पीसना, थोड़ा पीसना जिससे मोटे रवे रह जायें।
 दरदरी—(हि. वि. स्त्री.) जिसके रवे मोटे हों।
 दरन—(हि. पूं. वि.) दलन, नाश करनेवाला।
 दरना—(हि. क्रि. स.) दरदरा बनाना, मोटा पीसना, नष्ट करना।
 दरप—(हि. पूं.) देखें 'दर्प'।
 दरपन—(हि. पूं.) देखें 'दर्पण'।
 दरपना—(हि. क्रि. अ.) अहंकार करना, क्रोध करना।
 दरव—(हि. पूं.) धन, धातु, मोटे पोत की किनारदार चादर।
 दरवा—(फा. पूं.) कबूतरों के रहने की लकड़ी की दनी खानेदार खुली आलमारी।
 दरवान—(फा. पूं.) द्वारपाल, ड्योढ़ीदार।
 दरवार—(फा. पूं.) राजा का सभा-भवन, राजसभा, नवाबों, सामंतों आदि की सभा का बैठकखाना।
 दरवार आम—(फा. पूं.) (वाद्दाह अकवर की) सार्वजनिक राजसभा।
 दरवार खास—(फा. पूं.) राजा का निजी या विशिष्ट सभा-भवन।
 दरवारदारी—(फा. स्त्री.) किसी के यहाँ बार-बार जाकर अनुनय-विनय करने की क्रिया, चापलूसी।
 दरवारी—(फा. पूं.) दरवार में शामिल या शरीक होनेवाला सदस्य।
 दरभ—(हि. पूं.) देखें 'दर्भ', कुश, वन्दर।
 दरभियान—(फा. पूं.) मध्य, बीच।
 दरभियानी—(फा. वि.) मध्यस्थ, बीच का।
 दररना—(हि. क्रि. अ.) धक्का देना।
 दरराना—(हि. क्रि. अ.) वेग से आ पहुँचना।
 दरवाजा—(फा. पूं.) द्वार, किवाड़, फाटक।
 दरवो—(हि. स्त्री.) साँप का फन, सँझसी, करछुल, पीना।

दरवेश—(फा. पूं.) फकीर, भिखारी, याचक।
 दरश—(हि. पूं.) देखें 'दर्श'।
 दरशन—(हि. पूं.) देखें दर्शन।
 दरशाना—(हि. क्रि. स.) दरसाना, दिखलाना।
 दरस—(हि. पूं.) दर्शन, देखा-देखी, भेंट, सुन्दरता, छवि।
 दरसन—(हि. पूं.) दर्शन, भेंट।
 दरसना—(हि. क्रि. अ., स.) देखना, दिखाई पड़ना, देखने म आना।
 दरसनिया—(हि. पूं.) शीतला की शान्ति के लिए पूजा करनेवाला।
 दरसनी—(हि. स्त्री.) दर्शन, दर्पण;—हुंडी—(स्त्री.) एक प्रकार की हुण्डी जिसके भुगतान की मिति में दस दिन या इससे कम समय बाकी हो, वह वस्तु या पत्र जिसके दिखलाने ही किसी से कोई वस्तु मिल जाय।
 दरसनीय—(हि. वि.) देखें 'दर्शनीय'।
 दरसान—(हि. पूं.) प्रकाश, चमक।
 दरसाना, दरसाना—(हि. क्रि. स.) दिखलाना, प्रकट करना, स्पष्ट करना, समझाना।
 दरांती—(हि. स्त्री.) घास आदि काटने की हँसिया।
 दराई—(हि. स्त्री.) दरने की क्रिया या या मजदूरी।
 दराज—(हि. स्त्री.) फाँक, छेद।
 दराजदार—(फा. वि.) जिसमें दराजें हों।
 दरार—(हि. स्त्री.) दरज।
 दरारना—(हि. क्रि. अ.) विदीर्ण होना, फटना।
 दरारा—(हि. पूं.) धक्का, रगड़, दरैरा।
 दरि—(सं. स्त्री.) गुहा, कन्दरा।
 दरित—(सं. व.) भयभीत, डरपीक।
 दरिद्र—(सं. वि.) निचन, कंगाल; (पुं.) कंगाल मनुष्य।
 दरिद्रता—(सं. स्त्री.) निर्बन्धता।
 दरिद्रत्व—(सं. पूं.) दरिद्रता।
 दरिद्राण—(सं. पूं.) दरिद्रता।
 दरिद्र-नारायण—(सं. पूं., वि.) बहुत गरीब, दरिद्र।
 दरिया—(फा. पूं.) नदी, समुद्र।
 दरियाई—(फा. वि.) नदी या समुद्र संबंधी।
 दरियाई घोड़ा—(फा. पूं.) गैड़े की तरह का एक जंगली अफ्रीकी जानवर जो नदियों के किनारे मिलता है।
 दरियापत—(फा. वि.) ज्ञात, मालूम।
 दरियाव—(हि. पूं.) देख 'दरिया', समुद्र।
 दरी—(सं. स्त्री.) पर्वत की गुफा, खोह, पर्वतों के बीच का वह नीचा स्थान जिसमें कोई नदी बहती हो अथवा

गिरती हो।

दरी—(हि. स्त्री.) मोटे सूतों का एक प्रकार का विछौना जो फर्श या पलंग पर बिछाया जाता है; (सं. वि.) फाड़नेवाला, डरपीक।
 दरैती—(हि. स्त्री.) अनाज दरने की छोटी चक्की।
 दरैक—(हि. पूं.) वकाइन का पेड़।
 दरैरना—(हि. क्रि. स.) रगड़ते हुए धक्का देना, पीसना, रगड़ना।
 दरैरा—(हि. पूं.) धक्का, रगड़, निरन्तर धारा या बहाव, पानी का तोड़।
 दरैस—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की छींट, (वि.) तैयार, बना हुआ।
 दरैसी—(हि. स्त्री.) तैयारी सजावट।
 दरैया—(हि. पूं.) दाल दरनेवाला, घातक।
 दरोगा—(हि. पूं.) देखें 'दारोगा'।
 दरौदर—(सं. पूं.) पास से खेलने का जुआ।
 दर्गाह—(हि. पूं.) देखें 'दरगाह'।
 दर्ज—(हि. स्त्री.) देखें 'दर्ज'; (वि.) लिखत, लिखा हुआ।
 दर्जन—(हि. पूं.) बारह वस्तुओं का समूह, इकट्ठी या एक साथ बारह वस्तुएँ।
 दर्जा—(अ. पूं.) श्रेणी, कोटि, वर्ग, कक्षा, पद, ओहदा।
 दर्जिन—(हि. स्त्री.) दर्जी की स्त्री।
 दर्जी—(फा. पूं.) कपड़े सीनेवाला।
 दर्ई—(फा. पूं.) पीड़ा, व्यथा, कष्ट, दुःख, रहम, सहानुभूति, अनुकंपा।
 दर्ईनाक—(फा. वि.) कष्टकर, दुःखदायी, दयनीय।
 दर्ईसंद—(फा. वि.) पीड़ित, दुःखी, दयावान।
 दर्ई—(हि. वि.) देखें 'दर्ईसंद'।
 दर्दुर—(सं. पूं.) भेक, मेढ़क, मेघ, वादल, एक राक्षस का नाम, अन्नक, वीरवहूटी नामक कीड़ा, एक प्रकार का धान, पर्वत, पहाड़, वह पात्र जिसका कुछ अंश टूट गया हो।
 दर्दुरक—(सं. पूं.) देखें 'दर्दुर'।
 दर्दुरच्छदा—(सं. स्त्री.) ब्राह्मी बूटी।
 दर्दुरा—(सं. स्त्री.) चंडिका, दुर्गा।
 दर्प—(सं. पूं.) गर्व, अहंकार, अभिमान, धमंड, कोप, रोष, उद्वृण्डता, उत्साह, दवाव, आतंक, कस्तूरी, एक प्रकार का मृग।
 दर्पक—(सं. पूं.) कामिदेव; (वि.) अभिमान करनेवाला, धमंडी।
 दर्पण—(सं. पूं.) चक्षु, नेत्र, उत्तेजना, आईना, आरसी, वह पर्वत जिस पर कुबेर रहते हैं।
 दर्पद—(सं. वि.) अभिमान उत्पन्न करनेवाला, गर्वदायक; (पुं.) विष्णु।

दर्पपत्रक—(सं. पं.) कुश।
 दपहन्—(मं. वि.) अभिमान को दूर करनेवाला; (पं.) विष्णु।
 दपित—(सं. वि.) अहंकार से भरा हुआ।
 दर्पो—(सं. वि.) अहंकारी, घमंडी।
 दर्भ—(सं. पं.) एक प्रकार का कुश, डाम, कुश का दना हुआ आसन।
 दर्भक—(सं.पं.) बोट्टे के टाप का एक रोग।
 दर्भकुमुभ—(सं.पं.) एक प्रकार का कीड़ा।
 दर्भकेतु—(सं.पं.) राजा जनक के भाई का नाम।
 दर्भट—(सं.पं.) घर के भीतर की कोठरी।
 दर्भपत्र—(सं. पं.) काश, काँस।
 दर्भपुण्य—(सं. पं.) एक प्रकार का सर्प।
 दर्भमूल—(सं. पं.) कुश की जड़।
 दर्भरं—(सं. पं.) लवा नामक पक्षी।
 दर्भासन—(सं. पं.) कुश का बना हुआ आसन, कुशासन।
 दर्भ—(सं. वि.) विदारक, फाड़नेवाला।
 दर्भियान, दर्भियानी—(हिं.पं.,अव्य.,वि.) देखें 'दरभियान, 'दरभियानी'।
 दर्भाना—(हिं.क्रि.अ.) वधइक किसी स्थान में प्रवेश करना, बिना भय के चला जाना।
 दर्भ—(सं. पं.) राक्षस, हिंसा करनेवाला मनुष्य, पंजाब के उत्तर में रहनेवाली एक प्राचीन जाति; (स्त्री.) राजा उशीनर की एक पत्नी का नाम।
 दर्भट—(सं. पं.) द्वारपाल, ड्योढ़ीदार।
 दर्भरीक—(सं.पं.) इन्द्र, वायु, एक प्रकार का वाजा।
 दर्भि—(सं.स्त्री.) वड़ी करछी, साँप का फन।
 दर्भिका—(सं. स्त्री.) वनगोभी का तृण, आँल में लगाने का एक प्रकार का काजल।
 दर्भो—(सं.स्त्री.) करछी, चम्मच, चमचा।
 दर्भोकर—(सं. पं.) फनवाला साँप।
 दर्भ—(सं.पं.) सूर्य और चन्द्रमा का संगम-काल, अमावस्या तिथि, अमावस्या के दिन किया जानेवाला यज्ञ।
 दर्भक—(सं. पं.) द्वारपाल, ड्योढ़ीदार, देखनेवाला, दिखलानेवाला; (वि.) निपुण, मुख्य, प्रधान।
 दर्भन—(सं.पं.) नयन, स्वप्न, धर्म, बुद्धि, दर्पण, वण, भेट, अवलोकन, दृष्टि द्वारा ज्ञान, साक्षात्कार, देखा-देखी, चाक्षुष ज्ञान, वह शास्त्र जिसके द्वारा यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त—ये पट्टदर्शन कहलाते हैं।
 दर्भनपय—(सं. पं.) दृष्टिपथ।

दर्भन प्रतिभू—(सं. पं.) वह मनुष्य जो किसी दूसरे को उपस्थित करने का भार अपने ऊपर लेता है।
 दर्भनीय—(सं. व.) देखने योग्य, सुन्दर।
 दर्भनोष्ज्वला—(सं. स्त्री.) सफेद जायफल का पेड़।
 दर्भनोपनिषद्—(सं. स्त्री.) एक उपनिषद् का नाम।
 दर्भयामिनी—(सं. स्त्री.) अंधेरी रात, अमावस्या की रात।
 दर्भथिता—(सं. पं.) दर्शक, दिखलानेवाला, द्वारपाल।
 दर्भविपद्—(सं.पं.) चन्द्र, चन्द्रमा।
 दर्भाना—(हिं. क्रि. स.) दिखलाना।
 दर्भित—(सं.वि.) प्रकाशित, दिखलाया हुआ।
 दर्भो—(सं. वि.) विचार करनेवाला, देखनेवाला, भट करनेवाला।
 दर्भ्य—(सं. वि.) दर्शनीय, देखने योग्य।
 दर्भ—(सं. पं.) आधा भाग, खंड, टुकड़ा, पौधों का पत्ता, पात, तलवार आदि का म्यान, झुंड, समूह, मंडली, सेना, परत, तह, फूल की पंखुड़ी, तमाल-पत्र, जल में होनवाली एक घास।
 दर्भक—(हिं.स्त्री.) चोट से उत्पन्न कँपकँपी, थरथराहट, शरीर की वह पीड़ा जो रह-रहकर होती है, टीस, गुदड़ी; (पं.) नवकाशी करनेवालों का एक अस्त्र।
 दर्भकन—(हिं. स्त्री.) दलकने की क्रिया, थरथराहट, टीस।
 दर्भकना—(हिं. क्रि. अ., स.) डराना, कँपाना, थराना, चौंकना, उद्विग्न होना, चिन्ना, फट जाना।
 दर्भकपाट—(सं. पं.) पंखुड़ियों का वह कोष जिसके भीतर कली रहती है।
 दर्भकोमल—(सं. पं.) पद्म, कमल।
 दर्भकोष—(सं.पं.) कुन्द का पौधा, चमेली की लता।
 दर्भगंजन—(सं.वि.) शत्रु सेना को मारनेवाला; (पं.) एक प्रकार का धान।
 दर्भगंध—(सं. पं.) सप्तपर्ण वृक्ष।
 दर्भघुसरा—(हिं.पं.) एक प्रकार की रोटी जिसके भीतर मसाला मिश्रित पीसी हुई दाल भरी रहती है।
 दर्भदल—(हिं. स्त्री.) वह भूमि जो बहुत गहराई तक गीली और मृदु हो, जिस पर चलने से पैर घँस जाता हो; कीचड़, पंक, (मूहा.) -में फँसना-आपत्ति में पड़ना।
 दर्भदला—(हिं. वि.) जहाँ दलदल हो।
 दर्भदार—(हिं.वि.) मीठी तह या परत का।

दर्भन—(सं.पं.) मोटा पीसकर टुकड़े-टुकड़े करना, बिनाग, संहार, नाश।
 दर्भना—(हिं. क्रि. स.) चूर्ण करना, टुकड़े-टुकड़ करना, कुचलना, नष्ट करना, तोड़ना, मसलना, चक्की में पीसकर अन्न के दानों के छोटे रवे बनाना या दो दलों में अलगाना।
 दर्भनी—(सं. स्त्री.) ढेला; (वि.) विच्छेद करनेवाला।
 दर्भप—(सं.पं.) सुवर्ण, सोना, शस्त्र-प्रहार।
 दर्भपति—(सं. पं.) दल का प्रधान व्यक्ति, सरदार, सेनापति।
 दर्भपुष्पा—(सं. स्त्री.) केतकी, केवड़ा।
 दर्भवल—(सं. पं.) सैन्य-समूह।
 दर्भवादल—(हिं. पं.) बादलों का समूह या झुंड, बड़ी सेना, बड़ा खेमा।
 दर्भमलना—(हिं. क्रि. स.) कुचलना, नष्ट करना, मार डालना।
 दर्भवाना—(हिं. क्रि. स.) दूसरे से दलने का काम कराना।
 दर्भवाल—(सं. पं.) सेनापति।
 दर्भसालिनी—(सं. स्त्री.) कच्ची, अरबी।
 दर्भसायसी—(सं. स्त्री.) सफेद तुलसी का पौधा।
 दर्भवैया—(हिं. वि.) कुचलनेवाला।
 दर्भसूची—(सं. स्त्री.) कंटक, काँटा, वह पौधा जिसके पत्तों में काँट हों।
 दर्भस्थ—(सं.वि.) दलयुक्त, दलों में स्थित।
 दर्भहन—(हिं.पं.) वह अन्न जिसकी दाल बनाई जाय।
 दर्भहरा—(हिं. पं.) दाल बेचनेवाला।
 दर्भदक—(सं. पं.) जंगली तिल, गेरू, फन, जलकुम्भी, अंधड़, आँधी, गज-कर्णों का पौधा, नागकेशर का वृक्ष।
 दर्भदकी—(सं.स्त्री.) पिठवन नामक लता।
 दर्भद्वय—(सं. पं.) पंक, कीचड़, कुन्द का वृक्ष।
 दर्भान—(हिं. पं.) ओसारा, दालान।
 दर्भामल—(सं.पं.) मरुआ का पौधा, मैनफल का वृक्ष।
 दर्भाम्ल—(सं. पं.) लोनिया शाक।
 दर्भाल—(अ.पं.) दूसरों का माल कुछ धन लेकर खरीद-विक्री करानेवाला।
 दर्भाली—(अ. स्त्री.) दलाल का काम, दस्तूरी, कमीशन आदि।
 दर्भाल्य—(सं. पं.) तेजपत्ता।
 दर्भलि—(सं. स्त्री.) ढेला।
 दर्भलिक—(सं. पं.) काष्ठ, काठ।
 दर्भलित—(सं. वि.) दला हुआ, खंडित, विदीर्ण, कुचला हुआ, नष्ट किया हुआ।

दलिया—(हि. पुं.) वह अन्न जो दलकर टुकड़े-टुकड़े किया गया हो।
 दलील—(अ. स्त्री.) तर्क, युक्ति, वहस।
 दलेपंज—(हि. पुं.) बुड्ढा घोड़ा, अधिक वय का मनुष्य।
 दलेल—(हि. पुं.) (अंगरेजी ड्रिल शब्द का अपभ्रंश) सिपाहियों की कवायद।
 दलोद्भव—(सं. वि.) वह शब्द जो पत्तों से उत्पन्न होती है।
 दवैरी—(हि. स्त्री.) देखें 'दवैरी'।
 दवैगरा—(हि. पुं.) वर्षा की झड़ी।
 दव—(सं. पुं.) वन, जंगल, वह अग्नि जो जंगलों में आप से आप लग जाती है, उष्णता, गरमी, दुःख, कष्ट।
 दवदशक—(सं. पुं.) रोहित नामक श्वास।
 दवदहन—(सं. पुं.) दावाग्नि, जंगलकी आग।
 दवन—(हि. पुं.) नाश, दोने का पौधा।
 दवनपापड़ा—(हि. पुं.) पित्तपापड़ा।
 दवना—(हि. क्रि. स.) दग्ध करना, जलाना; (पुं.) दोने का पौधा।
 दवनी—(हि. स्त्री.) देखें 'दवैरी', मिसाई, मंडाई।
 दवा—(फा. स्त्री.) औषध, उपचार, इलाज, चिकित्सा।
 दवाई—(हि. स्त्री.) दवा।
 दवाखाना—(फा. पुं.) औषधालय।
 दवाईखाना—(हि. पुं.) देखें 'दवाखाना'।
 दवामिन—(सं. पुं.) वन में लगनेवाली अग्नि, दावानल।
 दवादरपन—(हि. पुं.) औषध, उपचार।
 दवानल—(सं. पुं.) देखें 'दवामिन'।
 दवामी—(अ. वि.) स्थायी;—बंदोबस्त—(पुं.) जमीन की जोत, मालगुजारी आदि की स्थायी व्यवस्था।
 दवारि—(हि. स्त्री.) वनाग्नि, दावानल।
 दविष्ठ—(सं. वि.) दूर देश का, दूरवर्ती।
 दश—(सं. वि., पुं.) पाँच की दूनी संख्या, दस, १०।
 दशक—(सं. पुं.) दस की संख्या।
 दशकंठ—(सं. पुं.) जिसके दस कंठ हों, रावण।
 दशकंध, दशकंधर—(सं. पुं.) रावण।
 दशकर्म—(सं. पुं.) द्विजों के दस संस्कार, यथा—गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, निक्रमण, नामकरण, अन्न-प्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन और विवाह।
 दशकामव्यसन—(सं. पुं.) काम से उत्पन्न दस प्रकार के व्यसन, यथा—मृगया, द्यूत, दिवानिद्रा, परनिन्दा, प्रमदाशक्ति, नृत्य, गीत, क्रीड़ा, वृथा भ्रमण और मद्य-पान।
 दशकुमारचरित—(सं. पुं.) महाकवि दंडी

कावनाया हुआ संस्कृत का एक गद्य ग्रन्थ।
 दशकुलवृक्ष—(सं. पुं.) तन्त्र के अनुसार दस वृक्ष, यथा—लिशोड़ा, करंज, बेल, पीपल, नीम, कदंब, गूलर, वरगद, इमली और आंवला।
 दशकोषी—(सं. स्त्री.) रुद्रताल का एक भेद।
 दशक्षीर—(सं. पुं.) दस जन्तुओं का दूध, यथा—गाय, भैंस, ऊँटनी, घोड़ी, बकरी, स्त्री, हथिनी, हरिनी और गदही का दूध।
 दशगात्र—(सं. पुं.) शरीर के दस प्रधान अंग, मृतक संबंधी एक कर्म जो मरने के बाद दस दिनों तक किया जाता है।
 दशग्रामिक दशग्रामी—(सं. पुं.) दस गाँवों का स्वामी।
 दशश्रीव—(सं. पुं.) रावण, एक असुर का नाम।
 दशजटा—(सं. स्त्री.) दशमूल।
 दशतय—(सं. वि.) दस संख्यावाला।
 दशति—(सं. स्त्री.) सौ की संख्या, सौ।
 दशदशी—(सं. वि.) सौमना।
 दशदिक्—(सं. स्त्री.) दस दिशाएँ; यथा—पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि, नैऋत्य, वायु, ईशान, अधः और ऊर्ध्व;—पाल—(पुं.) दसों दिशाओं की रक्षा करनेवाले दस देवता, यथा—पूर्व दिशा के इन्द्र, अग्नि-कोण के अग्नि-देव, दक्षिण दिशा के यम, नैऋत्य कोण के नैऋत, पश्चिम दिशा के वरुण, वायुकोण के मरुत्, उत्तर दिशा के कुबेर, ईशान कोण के ईश, ऊर्ध्व दिशा के ब्रह्मा और अधः दिशा के रक्षक अनन्त हैं।
 दशद्वार—(सं. पुं.) शरीर के दस छिद्र, यथा—दो कान, दो आँख, नाक के दो छिद्र, मुख, गुदा, लिंग और ब्रह्माण्ड।
 दशधा—(सं. अव्य.) दस प्रकार से, दस तरह से।
 दशन—(सं. पुं.) दाँत, शिखर, कवच।
 दशनच्छद—(सं. पुं.) ओष्ठ, ओठ।
 दशनपद—(सं. पुं.) वह स्थान जहाँ पर दाँतों से काटा गया हो।
 दशनबीज—(सं. पुं.) दाडिम, अनार।
 दशनवासा—(सं. पुं.) ओष्ठ, ओठ।
 दशनांग—(सं. पुं.) देखें 'दशनपद'।
 दशनाशु—(सं. पुं.) दाँतों की चमक।
 दशनाद्वया—(सं. स्त्री.) लोनिया शाक।
 दशनाम—(सं. पुं.) संन्यासियों के दस भेद, यथा—तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती और पुरी, (इन्में पाँच तान्त्रिकों के थे। तान्त्रिकों को परास्त करने के बाद उनके पाँच नाम शांकर-मत में मिल गये। शांकरभेद—तीर्थ, अरण्य, गिरि, सरस्वती,

तथा आश्रम; तान्त्रिकभेद—सागर, वन, पर्वत, भारती, तथा पुरी।)
 दशनामी—(हि. पुं.) संन्यासियों का एक वर्ग जिसको अद्वैतवादी सुप्रसिद्ध धर्म-प्रचारक शंकराचार्य के एक शिष्य न चलाया था।
 दशनोच्छिष्ट—(सं. पुं.) नाक या मुख से निकला हुआ द्वास, होंठों का चुम्बन।
 दशपिंड—(सं. पुं.) मृत्यु के बाद दिया जाने-वाला दस पिंड।
 दशपुर—(सं. पुं.) मुस्तक, मोथा।
 दशपुरष—(सं. पुं.) दस पीढ़ियाँ।
 दशपूर्वरथ—(सं. पुं.) दशरथ।
 दशपेय—(सं. पुं.) एक प्रकार का यज्ञ।
 दशवल—(सं. पुं.) बुद्धदेव, दस बल, यथा—दान, शील, क्षमा, वीर्य, ज्ञान, प्रजा, उपाय, बल, प्रणिधि और ध्यान।
 दशबाहु—(सं. स्त्री.) दशभुजा, दुर्गा; (वि.) जिसके दस बाहु हों।
 दशभुजा—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी।
 दशभूमिग, दशभूमिश—(सं. पुं.) बुद्धदेव।
 दशम—(सं. वि.) दस संख्या का पूरक, दसवाँ।
 दशम दशा—(सं. स्त्री.) विरह में वियोगी की अंतिम दशा जिसमें वह प्राण त्याग देता है।
 दशमलव—(सं. पुं.) गणित में वह भिन्न जिसके हर में दस या उसका कोई घात होता है।
 दशमहाविद्या—(सं. स्त्री.) देवी की दस मूर्तियाँ जिनकी उपासना शाक्त करते हैं; इनके नाम—काली, तारा, पोड़शी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, घूमावती, बगला, मातंगी और कमला ह। इनको सिद्धविद्या भी कहते हैं।
 दशमंश—(सं. पुं.) दसवाँ हिस्सा, दसवाँ भाग।
 दशमी—(सं. स्त्री.) चान्द्रमास के किसी पक्ष की दसवीं तिथि, मरणावस्था;—स्थ—(वि.) अति वृद्ध, जो नब्बे वर्ष से अधिक उम्र का हो।
 दशमुख—(सं. पुं.) रावण।
 दशमूल—(सं. पुं.) वैद्यक में कही हुई दस वनस्पतियों की जड़ें, जिनके नाम—सरिवन, पिठवन, छोटी कटाई, बड़ी कटाई, गोखरू, बेल, सोनापाठा, गंमारी, गनियारी और पाठा हैं।
 दशमौलि—(सं. पुं.) रावण।
 दशरथ—(सं. पुं.) इक्ष्वाकु वंश के राजा जो अयोध्या में राज्य करते थे, रामचंद्र के पिता।
 दशरात्र—(सं. पुं.) दस रातों में समाप्त होनेवाला एक यज्ञ।
 दशलक्षण—(सं. पुं.) धर्म के दस लक्षण

यथा-वृत्ति, धामा, दम, अस्त्येय, शीघ्र, इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध।
 दशवदन-(सं. पुं.) रावण।
 दशवधिक-(सं. वि.) दस वर्षों में होनेवाला।
 दशवाहु-(सं. पुं.) शिव, महादेव।
 दशविध-(सं. वि.) दस प्रकार का।
 दशवीर-(सं. पुं.) एक यज्ञ का नाम।
 दशहरा-(सं. स्त्री.) ज्येष्ठ मास की शुक्ला दशमी, (इस दिन गंगा का जन्म हुआ था), गंगा-दशहरा।
 दशांग-(सं. पुं.) देवताओं के पूजन में दिया जानेवाला घूप जो दस गंध-द्रव्यों को चूर्ण करके तैयार किया जाता है।
 दशांगुल-(सं. पुं.) खरबूजा।
 दशा-(सं. स्त्री.) अवस्था, चित्त, कपड़े का किनारा, दिये की बत्ती, मनुष्य के जीवन की दस अवस्थाएँ, यथा-गर्भावसा, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, यौवन, स्थविरता, जरा, प्राणरोध और मृत्यु; प्रकार, विरहियों की कामकृत अवस्थाएँ; फलित ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की अपने-अपने भोग-काल की अवस्थाएँ।
 दशाकर्ष-(सं. पुं.) प्रदीप; वस्त्र का अंचल।
 दशाकर्षी-(सं. पुं.) प्रदीप।
 दशाधिपति-(सं. पुं.) ज्योतिष में दशा का स्वामी, दस सैनिकों का अध्यक्ष, जमादार।
 दशानन-(सं. पुं.) रावण।
 दशानिक-(सं. पुं.) दंती वृक्ष, जमालपोटा।
 दशार्ण, दशार्णक-(सं. पुं.) एक प्राचीन देश का नाम जो विन्ध्य पर्वत के दक्षिण-पूर्व भाग में था, एक नदी का नाम जो इसी देश में होकर बहती है, इस देश का राजा या निवासी, दशाक्षर मन्त्र।
 दशार्णा-(सं. स्त्री.) एक छोटी नदी का नाम जो कालपी के पास यमुना नदी में मिली है।
 दशार्ध-(सं. पुं.) दस का आधा, पाँच।
 दशाह-(सं. पुं.) राजा वृष्णि के पौत्र, विष्णु।
 दशावतार-(सं. पुं.) विष्णु के प्रसिद्ध दस अवतार जो मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथी या राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि हैं।
 दशाश्व-(सं. पुं.) चन्द्रमा, इक्ष्वाकु राजा के दसवें पुत्र का नाम।
 दशाश्वमेध-(सं. पुं.) काशी के अन्तर्गत एक तीर्थ का नाम, प्रयाग में त्रिवेणी के पास एक धाट का नाम।
 दशास्य-(सं. पुं.) दशमुख, रावण।
 दशाह-(सं. पुं.) दस दिन, मृतक-कृत्य का दसवाँ दिन।

दशेर-(सं. पुं.) हिंसक जीव।
 दशेरक-(सं. पुं.) वर्तमान मारवाड़ का प्राचीन नाम, मरूमूमि।
 दशेष्क-(सं. पुं.) मरुदेश, मारवाड़।
 दशेश-(सं. पुं.) ज्योतिष में दशाका अधिपति।
 दष्ट-(सं. वि.) दाँत से काटा हुआ।
 दस-(हिं. वि.) जो गिनती में नव और एक अर्थात् पाँच का दुगुना हो; (पुं.) पाँच की दूनी संख्या, १०।
 दसगौन-(हिं. पुं.) प्रसव के दस दिन बाद प्रसूता का सोरी से दूसरे घर में प्रवेश।
 दसखत-(हिं. पुं.) देखें 'दस्तखत', हस्ताक्षर।
 दसन-(हिं. पुं.) देखें 'दशन'।
 दसना-(हिं. क्रि. अ. स.) फँलना, फँलाना, विछाना; (पुं.) विस्तर, विछौना।
 दसमी-(हिं. स्त्री.) देखें 'दशमी'।
 दस-रंग-(हिं. वि.) मलखंभ का एकव्यायाम।
 दसवाँ-(हिं. वि.) गिनती में दसवें स्थान का।
 दसा-(हिं. स्त्री.) देखें 'दशा', अग्रवाल वैश्यों का एक भेद।
 दसाना-(हिं. क्रि. स.) विछाना।
 दसारी-(हिं. स्त्री.) पानी के समीप रहनेवाली एक प्रकार की चिड़िया।
 दसी-(हिं. स्त्री.) वस्त्र के किनारे पर का सूत, पल्ला, बैलगाड़ी की पटरी, चमड़ा छीलने का एक प्रकार का अस्त्र।
 दस-(हिं. स्त्री.) दशमी तिथि।
 दसोतरा-(हिं. वि.) दस अधिक।
 दसौधी-(हिं. पुं.) भाटों की एक जाति जो अपने को ब्राह्मण कहती है, ब्रह्मभट्ट।
 दस्तंदाज-(फा. वि.) हस्तक्षेप करनेवाला।
 दस्तंदाजी-(फा. स्त्री.) हस्तक्षेप, छेड़छाड़।
 दस्त-(फा. पुं.) हाथ, पंजा, पतला पाखाना।
 दस्तकार-(फा. पुं.) हाथ से काम करनेवाला।
 दस्तकारी-(फा. स्त्री.) दस्तकार का काम, कौशल, कृति आदि।
 दस्तखत-(फा. पुं.) हस्ताक्षर।
 दस्तखती-(फा. वि.) हस्ताक्षरयुक्त।
 दस्ता-(फा. पुं.) औजारों की मूठ, बेंट, फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, सिपाहियों या सैनिकों का छोटा-सा दल, कागज के २५ तावों का समूह।
 दस्ताना-(फा. पुं.) हाथ में पहनने का मोजा।
 दस्तावर-(फा. वि.) जिससे दस्त आवे, विरेचक।
 दस्तावेज-(फा. स्त्री.) संपत्ति हस्तांतरण, विक्रय आदि का लिखित पट्टा, विक्रय-पत्र या लेख्य।
 दस्तावेजी-(फा. वि.) दस्तावेज-संबंधी।
 दस्ती-(फा. वि.) हाथ का, जो हाथ से

भेजा गया हो।
 दस्तूर-(फा. पुं.) रीति, रवाज, चाल, प्रथा।
 दस्तूरी-(फा. स्त्री.) दलाली, कमीशन, छूट।
 दस्म-(सं. वि.) आक्षेप करनेवाला, देखन योग्य; (पुं.) यज्ञमान, अग्नि, चौर, दुष्ट मनुष्य।
 दस्यु-(सं. पुं.) डकैत, डाकू, चोर, दुष्ट मनुष्य, अनार्य, म्लेच्छ, असुर, दत्य; (वि.) उपेक्षा करनेवाला; -ता-(स्त्री.) लुटेरापन, डकैती, दुष्टता; -भय-(पुं.) चोर या डाकू का भय; -वृत्ति-(स्त्री.) चोरी, डकैती, लुटेरापन।
 दस्र-(सं. पुं.) गर्दभ, गदहा, अश्विनी-कुमार, अश्विनी नक्षत्र; (वि.) हिंसा करनेवाला; -देवता-(पुं.) अश्विनी नक्षत्र।
 दह-(हिं. पुं.) नदी के भीतर का गड्ढा, पाल, कुण्ड; (स्त्री.) अग्नि की ज्वाला या लपट।
 दहक-(हिं. स्त्री.) आग के दहकने की क्रिया, धधक, ज्वाला, लपट, लज्जा।
 दहकन-(हिं. स्त्री.) दहकने की क्रिया।
 दहकना-(हिं. क्रि. अ.) ज्वाला के साथ बलना, धधकना, भड़कना, तपना, शरीर का गरम होना।
 दहकाना-(हिं. क्रि. स.) धधकाना, क्रोध दिलाना, भड़काना, इस प्रकार जलाना की ज्वाला ऊपर उठे।
 दहड़-दहड़-(हिं. अव्य.) ज्वाला या लपट फेकते हुए, धायें धायें।
 दहन-(सं. पुं.) अग्नि, चीता नाम का वृक्ष, भिलावाँ, दुष्ट मनुष्य, कवृत्तर, एक रुद्र का नाम, तीन की संख्या, ज्योतिष का एक योग, जलने की क्रिया, कृत्तिका नक्षत्र, अगर, गुग्गुलु; -कैतन-(पुं.) घूम, घुआँ; -प्रिया-(स्त्री.) स्वाहा-देवी; -बकुल-(पुं.) अग्नि, आग; -शील-(वि.) जलनेवाला; -सारथि-(पुं.) वायु, हवा।
 दहना-(हिं. क्रि. अ. स.) जलना, जलाना, भस्म होना, भस्म करना, क्रोध दिलाना, कुढ़ाना, दुःखी करना, कष्ट पहुँचाना, धंसना, नीचे बैठना; (वि.) दहिना।
 दहनारति-(सं. पुं.) जल, पानी।
 दहनि-(हिं. स्त्री.) जलने की क्रिया, दहन।
 दहनोय-(सं. वि.) जलने या जलाने योग्य।
 दहनोपल-(सं. पुं.) सूर्यकान्त मणि।
 दहनोल्का-(सं. स्त्री.) आग की चिनगारी।
 दहपटना-(हिं. क्रि. स.) ध्वस्त करना, नष्ट करना, चौपट करना।

दहर—(सं. पुं.) चूहा, भाई, बालक, मुर्गा;
(वि.) सूक्ष्म, छोटा; (हिं. पुं.) नदी का
गहरा स्थान, पाल, कुण्ड ।
दहर-दहर—(हिं. अव्य.) घबकते हुए ।
दहरसूत्र—(सं. पुं.) बौद्धों का एक ग्रन्थ ।
दहरना—(हिं. क्रि. अ. स.) दहलना, दहलाना ।
दहल—(हिं. स्त्री.) भय से काँप उठना ।
दहलना—(हिं. क्रि. स.) डर से काँप उठना ।
दहला—(हिं. पुं.) ताश का वह पत्ता
जिस पर दस बूटियाँ हों ।
दहलाना—(हिं. क्रि.) भयभीत करना,
डराना, डराकर कंपाना ।
दहली—(हिं. स्त्री.) देखें 'दहलीज' ।
दहलीज—(फा. स्त्री.) दरवाजे के नीचे-
वाली लकड़ी जो जमीन से सटी रहती है ।
दहशत—(फा. स्त्री.) डर, भय ।
दहाई—(हिं. स्त्री.) दस का मान या
भाव, अकों का इकाई के बाद का
दूसरा स्थान या संख्या ।
दहाड़—(हिं. पुं.) बाघ आदि भयंकर पशुओं
की चिल्लाहट, गर्जन, चिल्लाकर रोने
का शब्द; (मुहा.)—मारना—चिल्ला-
कर रोना ।
दहाड़ना—(हिं. क्रि. अ.) गुराना, गरजना,
चिल्लाकर रोना ।
दहाना—(हिं. क्रि. अ.) हिंसा लगावना,
अंदाज लगाना, अनुमान करना, थाह
लेना ।
दहिना—(हिं. वि.) अपसव्य, बायाँ का
उलटा ।
दहिने—(हिं. अव्य.) दहिनी ओर; (मुहा.)
—होना—अनुकूल या प्रसन्न होना; —बायें-
(अव्य) इधर-उधर, दोनों ओर ।
दही—(हिं. पुं.) जामन डालकर जमाया
हुआ दूध; (मुहा.)—दही करना—अपनी वस्तु
को बेचने के लिए लोगों से कहते फिरना ।
दहूँ—(हिं. अव्य.) किवा, अथवा, कदाचित् ।
दहंगर—(हिं. पुं.) दही का घड़ा ।
दहड़ी—(हिं. स्त्री.) दही रखने का मिट्टी
का पात्र ।
दहेज—(हिं. पुं.) वह धन, सामग्रियाँ
आदि जो कन्या का पिता वर-पक्ष को
देता है, यौतुक ।
दहेला—(हिं. वि.) दग्ध, जला हुआ,
सन्तप्त, दुःखी, आर्द्र, भीगा हुआ ।
दह्लमान—(सं. वि.) जो जल रहा हो ।
दाँ—(हिं. पुं.) बार, बारी, दफा; (फा. वि.)
जाननेवाला, जानकार ।
दाँई—(हिं. वि. स्त्री.) दाहिनी; (स्त्री.) बार ।
दाँक—(हिं. स्त्री.) गरजना, गरज, दहाड़ ।

दाँकना—(हिं. क्रि. अ.) गरजना, दहाड़ मारना ।
दाँक—(हिं. पुं.) डंका, नगाड़ा, छोटा
पहाड़ी टीला, पहाड़ की चोटी ।
दाँगर—(हिं. वि.) देखें 'डाँगर' ।
दाँगी—(हिं. स्त्री.) जुलाहों की कंधी में
लगी हुई लकड़ी ।
दाँज—(हिं. स्त्री.) समता, तुलना,
बराबरी ।
दाँड—(सं. वि.) दंड-संबंधी ।
दाँडना—(हिं. क्रि. स.) दंड देना ।
दाँडक—(सं. वि.) दंड-संबंधी ।
दाँडक—(हिं. पुं.) घातक ।
दाँत—(हिं. पुं.) दाढ़ या मसूढ़ों की नुकीली
हड्डी जो आहार चबाने के काम में आती
है, दाँत के आकार की कोई वस्तु, दाँता,
दंदाना; (मुहा.)—काटी रोटी—घनि-
ष्ठता; —खट्टे करना—बहुत व्यग्र करना,
हराना; —चबाना—क्रोध से दाँत पीसना;
—तले अँगुली दवाना—चकित होना;
—तोड़ना—हराना; —पीसना—क्रोध में
दाँतों को किटकिटाना; —बजाना—
बहुत ठंडक के कारण दाँतों का परस्पर
घिसकर बोलना; —बैठ जाना—दाँत पर
दाँत इस प्रकार बैठ जाना कि मुँह न
खुल सके; —लगाना—किसी वस्तु को
प्राप्त करने की बड़ी अभिलाषा करना;
तालू में दाँत जमना—दुर्दशा के दिन
आना; दाँतों अँगुली काटना—अँगुलियों
को दाँतों से दवाना, आश्चर्य में पड़ना;
दाँतों में तिनका लेना—दया प्राप्त करने
की आशा से प्रार्थना करना ।
दाँत—(सं. वि.) दाँत-संबंधी, दमन
करनेवाला, वीर, उदार, संयमी ।
दाँतली—(हिं. स्त्री.) काग, डट्टा ।
दाँता—(हिं. पुं.) एक प्रकार का नुकीला
कंगूरा, दंदाना; —किटकिट, —किलकिल-
(स्त्री.) वाक्युद्ध, कहासुनी, गाली-गालीज ।
दाँति—(सं. स्त्री.) इंद्रिय-संयम या निग्रह ।
दाँतियाँ—(हिं. पुं.) रेह का नमक जो
पीने के तमाकू में मिलाया जाता है ।
दाँती—(हिं. स्त्री.) घास, चारा आदि
काटने की हँसिया, वह बड़ा खूँटा जिसमें
नाव बाँधी जाती है, एक प्रकार का
छोटा-सा डंसनेवाला कीड़ा, दाँतों की
पंक्ति, दर्रा, घाटी ।
दाँना, दाँबना—(हिं. क्रि. स.) पकी हुई
उपज की बालों से दाना अलगाने
के लिए बालों से रौंदवाना ।
दाँपत्य—(सं. वि.) दंपति-संबंधी ।
दाँभ—(सं. वि.) ढोंगी, कपटी,

दाँभिक—(सं. वि.) ढोंगी ।
दाँबनी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का गहना,
दामिनी ।
दाँबरी—(हिं. स्त्री.) रस्ती, डोरी ।
दाई—(हिं. स्त्री.) धात्री, धाय, प्रसूता की
उपचारिका, बच्चों की देखभाल करने-
वाली दासी ।
दाऊ—(हिं. पुं.) ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई ।
दाऊद—(अ. पुं.) ईसाई, इस्लाम और
यहूदी धर्मों के एक पैगंबर ।
दाऊदी—(फा. पुं.) एक तरह का गेहूँ ।
दाक—(सं. पुं.) दाता, यजमान ।
दाक्षायण—(सं. वि.) दक्ष से उत्पन्न, दक्ष
के गोत्र का; (पुं.) सोने का एक आभू-
षण, दक्ष द्वारा किया हुआ यज्ञ ।
दाक्षायणी—(सं. स्त्री.) दुर्गा, रोहिणी
नक्षत्र, कश्यप की स्त्री अदिति, दक्ष की
कन्या क्रतु ।
दाक्षायण्य—(सं. पुं.) आदित्य, सूर्य ।
दाक्षि—(सं. पुं.) दक्ष-सन्तान ।
दाक्षिण—(सं. वि.) दक्षिणा सम्बन्धी ।
दाक्षिणक—(सं. वि.) चन्द्रलोकगामी ।
दाक्षिणगाल—(सं. पुं.) वह घर जिसका
द्वार दक्षिण की ओर हो ।
दाक्षिणात्य—(सं. वि.) जो दक्षिण में
उत्पन्न हो, दक्षिण देश संबंधी; (पुं.)
भारतवर्ष का विन्ध्य पर्वत के दक्षिण का
भाग या देश ।
दाक्षिण्य—(सं. पुं.) अनुकूलता, प्रसन्नता,
उदारता, सरलता, सुशीलता, साहित्य
में नाटक का एक शृंगार-भाव; (वि.)
दक्षिण संबंधी, दक्षिण का ।
दाक्षी—(सं. स्त्री.) दक्ष की कन्या ।
दाक्षीपुत्र, दाक्षय—(सं. पुं.) पाणिनी ऋषि ।
दाक्ष्य—(सं. पुं.) दक्षता, निपुणता ।
दाख—(हिं. स्त्री.) द्राक्षा, मुनक्का, अंगूर,
किशमिश ।
दाखिल—(फा. वि.) प्रविष्ट, घुसा हुआ,
पैठा हुआ ।
दाखिल-खारिज—(फा. पुं.) सरकारी
कागजात में एक स्वत्ववारी का नाम
काटकर उसकी जगह दूसरे का नाम
विधिक रूप से दर्ज करना ।
दाखिल-दफतर—(फा. वि.) किसी सर-
कारी कागज का मिसिल में नयी होना ।
दाखिला—(फा. पुं.) प्रवेश, प्रविष्टि ।
दाग—(फा. पुं.) शरीर पर के जन्मजात
चिह्न, धब्बा, कलंक; —दार—(वि.)
जिसपर दाग हो, धब्बेदार; (मुहा.)
—लगना—कलंकित होना ।

दाग—(हि.पुं.) दग्ध, दाह, मृतक का दाह-कर्म, शव जलाने की क्रिया, जलन, जलने का चिह्न; (मुहा.)—देना—मृतक का दाह कर्म करना।

दागना—(हि.क्रि.स.) दग्ध करना, जलाना, तपे हुए लोहे से शरीर पर चिह्न बनाना, किसी के अंग को जलाना, रंजक में आग लगाना; बंदूक, तोप आदि छोड़ना, फोड़े आदि पर ऐसी औषध लगाना जिससे वह जल जाय, रंग आदि से अंकित करना।

दागी—(फा. वि.) जिस पर दाग लगा हो, दागदार, कलंकित।

दाघ—(सं.पुं.) दाह, जलन, उष्णता, गरमी।

दाजन—(हि. स्त्री.) दाञ्जन, जलना।

दाजना—(हि. क्रि. अ.स.) जलना, डह करना, जलाना।

दाञ्जन—(हि. स्त्री.) दाजन, जलन।

दाञ्जना—(हि. क्रि. अ., स.) जलना, जलाना, सन्तप्त होना।

दाडूस—(हि. पुं.) एक प्रकार का सर्प।

दाडिम—(सं.पुं.) एला, इलायची, अनार;

—पत्रक—(पुं.) रोहितक वृक्ष; —पुष्प—

(पुं.) रोहितक वृक्ष, अनार का फूल;

—प्रिय, —भक्षक—(पुं.) शुक, सुग्गा।

दाडिमी—(सं. स्त्री.) अनार का वृक्ष।

दाड़ी—(सं. स्त्री.) अनार का फल।

दाढ़—(हि. पुं., स्त्री.) मयंकर शब्द,

चौभड़, जबड़े के भीतर के चौड़े दाँत;

(मुहा.)—मारकर रोना—जोर से

चिल्लाकर रोना।

दाढ़ना—(हि.क्रि.स.) अग्नि में भस्म करना,

जलाना, दुःखी करना।

दाढ़ा—(सं. स्त्री.) दंष्ट्रा, चौभड़, दाढ़,

प्रार्थना, विनती, समूह; (हि. पुं.)

दावानल, वन की आग।

दाढ़ी—(हि. स्त्री.) चिबुक, ठुड्डी और

गाल पर के बाल।

दाढ़ीजार—(हि.पुं.) वह मनुष्य जिसकी दाढ़ी

जल गई हो, एक प्रकार की गाली जिसको

स्त्रियाँ क्रोध में आकर पुरुष को देती हैं।

दात—(सं.वि.) काटा हुआ, छिन्न, शुद्ध, पवित्र।

दातव्य—(सं. वि.) दान देने योग्य; (पुं.)

उदारता, दान देने का काम; —चिकि-

त्साल्य—(पुं.) वह औषधालय जहाँ बिना

मूल्य दिये रोगियों को दवा मिलती है।

दाता—(सं. पुं.) दानवीर, देनेवाला।

दातापन—(हि. पुं.) दानशीलता।

दातार—(हि. पुं.) दाता, देनेवाला।

दाति—(सं. स्त्री.) छित्ति, दान, वह वस्तु

जो दी गई हो।

दाती—(हि. स्त्री.) देनेवाली, दात्री।

दातु—(सं. पुं.) दान।

दातुन—(हि. स्त्री.) देखें 'दतुवन'।

दातून—(हि. स्त्री.) जमालगोटे की जड़, दतुवन।

दातू—(सं. पुं.) दानवीर, दान देनेवाला;

—ता—(स्त्री.) दानशीलता, देने की प्रवृत्ति;

—द्व—(पुं.) देखें 'दातूता', दानशीलता।

दातौन—(हि. स्त्री.) देखें 'दतुवन'।

दात्यूह—(सं.पुं.) चातक, पपीहा, मेघ, बादल।

दात्र—(सं.पुं.) हँसुआ, दानकर्ता।

दात्री—(सं.स्त्री.) दान देनेवाली, हँसिया, गंगा।

दाद—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का चर्म-

रोग, देखें 'ददु'।

दादमर्दन—(हि. पुं.) चकवँड़ का पौधा।

दादरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का चलता

गाना, एक प्रकार का ताल जिसमें दो

अर्धमात्राएँ होती हैं।

दादा—(हि. पुं.) पिता का पिता, पितामह,

बड़ा भाई, एक आदरसूचक शब्द जो

बड़े-बूढ़ों के लिए प्रयुक्त होता है।

दादी—(हि. स्त्री.) पिता की माता।

दादु—(हि. स्त्री.) ददु, दाद नामक चर्म-रोग

दादुर—(हि. पुं.) मेढक, भेक।

दादू—(हि. पुं.) दादा के प्रति प्यार

का शब्द, एक साधारण संबोधन का

शब्द, एक साधु का नाम जिसके नाम

पर एक पंथ चला है, (इनकी अकबर के

समय बहुत प्रतिष्ठा थी, इन्होंने बहुत-सी

कवितायें बनाई हैं; —दयाल—(पुं.) दादू

नामक साधु; —पंथी—(पुं.) दादू नामक

साधु का चलाया हुआ सम्प्रदाय।

दाघ—(हि. स्त्री.) दाह, जलन।

दाघना—(हि.क्रि.स.) जलाना, भस्म करना।

दाधिक—(सं. वि.) दही से बना हुआ।

दाधीचि—(हि.पुं.) दधीचि के वंश का मनुष्य।

दान—(सं. पुं.) हाथी का मद, राजनीति

के चार उपायों में से एक, शुद्धि, कर,

महसूल, पालन, छेदन, वह वस्तु जो

दान में दी जावे, देने का कार्य, त्याग,

उत्सर्जन, धर्मार्थ कार्य; —कर्म—(पुं.)

दानक्रिया, देने का काम; —काम—

(वि.) दानशील; —कुल्या—(स्त्री.)

हाथी का मद; —घाटी—(हि. स्त्री.)

गोवर्धन में श्रीकृष्ण की लीला का एक

स्थान; —धर्म—(पुं.) दान का धर्म, दान

पुण्य; —पति—(पुं.) सर्वदा दान देनेवाला;

—पत्र—(पुं.) त्यागपत्र, वह लेख्य या पत्र

जिसके द्वारा कोई सम्पत्ति किसी को

दान के रूप में दी जाय; —पद्धति—

(स्त्री.) दान देने की प्रणाली; —पात्र—

(पुं.) दान पाने के उपयुक्त व्यक्ति;

—फल—(पुं.) दान देने का फल

—लीला—(स्त्री.) श्रीकृष्ण की वह लीला;

जिसमें उन्होंने ग्वालिनों से गोरस

बेचने का कर लिया था, वह पुस्तक

जिसमें श्रीकृष्ण की इस लीला का

वर्णन है; —विधि—(स्त्री.) दान देने का

नियम; —वीर—(पुं.) बहुत दान देने-

वाला, वीररस के अन्तर्गत एक प्रकार का

नायक; —व्रत—(पुं.) दान-रूपी व्रत;

—शक्ति—(स्त्री.) दान करने की यो-

ग्यता; —शील—(वि.) जो दाता हो, दानी,

दान करनेवाला; —शीलता—(स्त्री.)

उदारता; —शूर—(पुं.) दानवीर, शाक्य-

मुनि; —शौंड—(वि.) नान्य दानी;

—सागर—(पुं.) एक प्रकार का महा-

दान जिसमें भूमि, आसन तथा सोलह

पदार्थों का दान किया जाता है।

दानव—(सं. पुं.) दनु की सन्तति, असुर,

राक्षस; —गुरु—(पुं.) दानवों के गुरु,

शुक्राचार्य; —वज्र—(पुं.) एक प्रकार का

घोड़ा जो देवताओं और गन्धर्वों की

सवारी में रहता था; —प्रिया—(स्त्री.)

नागवल्ली लता, पान की लता।

दानवारि—(सं. पुं.) देवता, विष्णु, इन्द्र,

हाथी का मद।

दानवी—(सं.स्त्री.) दानव की स्त्री, राक्षसी;

(वि.) दानव-संबंधी, दानवों का।

दानवद्र—(सं. पुं.) राजा बलि।

दानवेय—(सं. पुं.) दक्ष की संतान, दनु

की संतान।

दाना—(फा. पुं.) अनाज का कण या

बीज, अन्न, भोजन, चबेना, मनका

गुरिया; (मुहा.) दाने-दाने को तर-

सना—भूखों मरना; दान-दाने को

मुहताज—अति निर्धन।

दानाचारा—(हि.पुं.) भोजन, खाना-पीना।

दानाध्यक्ष—(सं.पुं.) वह राज-कर्मचारी जो

दान किये हुए द्रव्यों को बाँटता है।

दानापानी—(हि.पुं.) अन्न-जल, भरण-

पोषण, जीविका, रहने का संयोग;

(मुहा.)—पानी छोड़ना—अन्न-जल कुछ

भी ग्रहण न करना।

दानिनी—(सं. स्त्री.) दान देनेवाली स्त्री।

दानी—(हि. वि., पुं.) दान करनेवाला,

उदार, दाता, कर उगाहनेवाला; (पुं.)

नेपाल के पहाड़ियों की एक जाति।

दानीय—(सं. वि.) दान करने योग्य।

दानु—(सं. पुं.) दाता, वायु, राक्षस

देने योग्य धन ।

दानुद—(सं. वि.) धन देनेवाला ।

दानेदार—(फा. वि.) जिसमें दाने या रवे हों, रवादार ।

दानो—(हिं. पुं.) देखें 'दानव' ।

दाप—(हिं. पुं.) दर्प, अहंकार, गर्व, घमंड, शक्ति, बल, उत्साह, उमंग, ताप, जलन, क्रोध; -क—(वि.) दवानेवाला ।

दादनीय—(सं. वि.) दंड देने योग्य ।

दापित—(सं.पुं.) दंडित, जिसको दंड मिला हो, धन आदि देकर वश में किया हुआ ।

दाब—(हिं.स्त्री.) दबने या दवाने का भाव, चाप, आतंक, अधिकार, भार, बीझा, शासन ।

दाबकस—(हिं. पुं.) लोहारों का छेद करने के अस्त्र का एक भाग ।

दाबदार—(हिं.वि.) प्रभावशाली, प्रतापी ।

दाबना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'दवाना' ।

दाबा—(हिं. पुं.) वृक्ष की कलम लगाने की एक विधि ।

दाबिल—(हिं. पुं.) एक प्रकार की सफेद चिड़िया ।

दाबी—(हिं. स्त्री.) कटी हुई उपज के बंधे हुए पूले ।

दाभ—(हिं. पुं.) एक प्रकार का कुश, डाम ।

दाभी—(सं. वि.) अनिष्टकारक, हानि पहुँचानेवाला ।

दाभ्य—(सं. वि.) शासन किये जाने योग्य, बाधा देने योग्य ।

दाम—(सं. पुं.) पशु को बाँधने की रस्सी, हार, माला, समूह, अनुसन्धान, खोज, विद्व, लोक, धन द्वारा शत्रु को वश में करने की एक राजनीति, दाननीति; (वि.) दानी, देनेवाला ।

दाम—(हिं. पुं.) एक दमड़ी का तीसरा अंश, धन, रुपया-पैसा, मूल्य, कीमत; (मुहा.)—खड़ा करदा—किसी वस्तु को बेचकर दाम बसूल करना;—चुकाना—मूल्य दे देना;—दाम भरदा—ऋण का दमेड़ी-दमड़ीचुकाना;—भरना—डाँड़ देना ।

दामक—(सं. पुं.) बागडोर, लगाम ।

दामर्धथि—(सं. पुं.) विराट राजा के सेनापति का नाम ।

दामन्—(सं. पुं.) वह रस्सी जो गाय दुहते समय उसके पिछले पैरों में बाँधी जाती है, माला, हार ।

दामनपर्व—(सं. पुं.) चैत सुदी द्वादशी को होनेवाला पर्व ।

दामनी—(सं. स्त्री.) रस्सी, डोरी ।

दामर—(हिं. स्त्री.) नाव की पेंदी में लगाने का मसाला, छोटे कानवाली भेड़ ।

दामरि, दामरी—(हिं. स्त्री.) रस्सी, डोरी

दामाद—(फा. पुं.) दमाद, जामाता ।

दामासाहो—(हिं. पुं.) वह दिवालिया महाजन जिसकी सम्पत्ति लहनदारों में अनुपाततः बाँट दी जाय ।

दामासाहो—(हिं. स्त्री.) दिवालिया महाजन की सम्पत्ति का वह अंश जो लहनदारों को बाँटा जाय ।

दामिनी—(सं. स्त्री.) विद्युत्, बिजली, स्त्रियों के पहिने का एक गहना, बेंदी, दाँवनी ।

दामी—(हिं. स्त्री.) कर; (वि.) कीमती ।

दामोद—(सं. पुं.) अथर्ववेद की एक शाखा का नाम ।

दामोदर—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण, विष्णु, हृषीकेश, बंगाल की एक प्रसिद्ध नदी का नाम ।

दाय—(सं. पुं.) दान आदि में दिया जानेवाला धन, उत्तराधिकारियों में बाँटी जानेवाली सम्पत्ति, खंडन, विभाग, दान ।

दायक—(सं. वि.पुं.) दाता, देनेवाला ।

दायज, दायजा—(हिं. पुं.) यौतुक, दहेज, वह धन जो विवाह के समय कन्या-पक्षवाले वरपक्ष को देते हैं ।

दायबंधु—(सं. पुं.) भ्राता, भाई ।

दायभाग—(सं. पुं.) पैत्रिक धन का पुत्रों या संबंधियों में विभाग ।

दायस—(अ. अव्यं.) सर्वदा ।

दायसी—(अ. वि.) सर्वदा का ।

दायर—(अ. वि.) निर्णय के लिए अदालत में पेश किया हुआ ।

दायरा—(अ. पुं.) गोल घेरा, क्षेत्र ।

दायाँ—(हिं. वि.) दाहिना ।

दाया—(हिं. स्त्री.) देखें 'दाया' ।

दायागत—(सं. वि.) जो अंश या बाँट दाय में मिला हो ।

दायाद—(सं.पुं.) दायग्राही, सपिंड, कुटुम्बी; (वि.) जो दाय के अधिकारी हों ।

दायादवत्—(सं.प.) पुत्र, बेटा ।

दायादी—(सं. स्त्री.) पुत्री, बेटा, कन्या ।

दायाद्यता—(सं. स्त्री.) दाय का भागी होने का भाव ।

दायित—(सं. वि.) दिया हुआ ।

दायित्व—(सं. पुं.) दायी होने का भाव ।

दायिनी—(सं. वि.) देनेवाली ।

दायी—(सं. वि.) दानी, देनेदार ।

दाय—(हिं. अव्यं.) दाहिनी ओर ।

दार—(सं. स्त्री.) पत्नी, भार्या; (पुं.) विदारण, फोड़ना ।

दारक—(सं.पुं.) पुत्र, बेटा, लड़का; (वि.) विदारक, फाड़नेवाला ।

दारकर्म—(सं. पुं.) विवाह ।

दारकाचार्य—(सं.पुं.) बुद्ध के गुरु का नाम ।

दारक्रिया—(सं. स्त्री.) दारकर्म, विवाह ।

दारग्रहण—(सं. पुं.) विवाह, पत्नीग्रहण ।

दारुण—(सं.पुं.) निर्मली का फल, चीरने-फाड़ने का काम, चीरने-फाड़ने का अस्त्र ।

दारद—(सं. पुं.) पारा, ईगुर, समूद्र ।

दारपरिग्रह—(सं. पुं.) दारकर्म, विवाह ।

दारपरिग्रही—(सं.वि.) जिसने विवाह किया हो ।

दारबलिभुज—(सं. पुं.) वकुला पक्षी ।

दारन—(हिं. वि.) देखें 'दारुण' ।

दारना—(हिं.क्रि.स.) विदीर्ण करना ।

दारमदार—(फा. पुं.) किसी कार्य की पूरी जिम्मेदारी, कार्यभार ।

दारव—(सं. वि.) काष्ठ संबंधी, लकड़ी का बना हुआ ।

दारसंग्रह—(सं. पुं.) देखें 'दारपरिग्रह' ।

दारा—(हिं. स्त्री.) भार्या, पत्नी ।

दाराधिगमन—(सं. पुं.) विवाह ।

दाराधीन—(सं.वि.) जो स्त्रीके वशीभूत हो ।

दारि—(सं. वि.) दारक, फोड़नेवाला; (हिं. स्त्री.) दाल ।

दारिड—(हिं. पुं.) देखें 'दाड़िम', अनार ।

दारिका—(सं. स्त्री.) कन्या, बेटा, बालिका ।

दारित—(सं.वि.) विदीर्ण, चीरा-फाड़ा हुआ ।

दारिद—(हिं.पुं.) देखें 'दारिद्र्य, दरिद्रता' ।

दारिस—(हिं. पुं.) अनार ।

दारिद्र्य—(सं. पुं.) दरिद्रता, निर्धनता ।

दारी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का रोग जिसमें पर के तलवे फट जाते हैं, वेवाय; (हिं. स्त्री.) लड़ाई में जीतकर लाई हुई दासी ।

दारीजार—(हिं. पुं.) लौड़ी का पति, दासी का पुत्र ।

दारु—(सं. पुं.) काष्ठ, काठ, लकड़ी, देवदार, पीतल, बड़ई, चीर-फाड़ करनेवाला मनुष्य; (वि.) टूटने-फूटनेवाला, दानशील ।

दारुक—(सं.पुं.) देवदार, काठ का पुतला, श्रीकृष्ण के एक सारथी का नाम ।

दारुकचल—(सं.पुं.) एक प्राचीन देशका नाम ।

दारुकदली—(सं. स्त्री.) जंगली केला, कठकेला ।

दारुका—(सं. स्त्री.) कठपुतली ।

दारुणध—(सं. स्त्री.) चीड़ के वृक्ष से निकलनेवाला द्रव, विरोजा ।

दारुचीनी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का तज, दालचीनी ।

दारुज—(सं. पुं.) एक प्रकार का बाजा; (वि.) काष्ठ से उत्पन्न होनेवाला ।

दारुण—(सं. पुं.) चीते का वृक्ष, भया-

नक रस, विष्णु, शिव, एक नरक का नाम, रीद्र नामक नक्षत्र, राक्षस; (वि.) विदारक, फाड़नेवाला, प्रचण्ड, भयंकर, विकट, कठिन, दुःसह ।
 दारुणक—(सं. पुं.) मस्तक में होनेवाला एक रोग ।
 दारुणता—(सं. स्त्री.) कठिनता, कठोरता ।
 दारुणा—(सं. स्त्री.) अक्षय तृतीया, नर्मदा खण्ड की अधिष्ठात्री देवी ।
 दारुणादि—(सं. पुं.) विष्णु ।
 दारुण्य—(सं. पुं.) कठोरता, भीषणता, उग्रता ।
 दारुनिशा—(सं. स्त्री.) दारुहरिद्रा, दारुहल्दी ।
 दारुपात्र—(सं. पुं.) काठ का बना हुआ पात्र, तुमड़ी ।
 दारुपीता—(सं. स्त्री.) दारुहल्दी ।
 दारुपुत्रिका—(सं. स्त्री.) कठपुतली ।
 दारुफल—(सं. पुं.) पिस्ता नामक भेवा ।
 दारुल्लहा—(सं. पुं.) जगन्नाथ ।
 दारुमय—(सं. वि.) काठ का बना हुआ ।
 दारुमच—(सं. पुं.) एक प्रकारका स्थावरविष ।
 दारुमूषा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का विष ।
 दारुयंत्र—(सं. पुं.) काठ का बना एक यंत्र ।
 दारुयोषिता—(सं. स्त्री.) कठपुतली ।
 दारुवह—(सं. पुं.) लकड़ी ढोनेवाला ।
 दारुक्षार—(सं. पुं.) चन्दन ।
 दारुसिता—(सं. स्त्री.) दालचीनी ।
 दारुहरिद्रा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का वृक्ष जिसका डंठल और जड़ औषधों में प्रयुक्त होती है ।
 दारुहलदी(ल्दी)—(हि. स्त्री.) देखें 'दारुहरिद्रा' ।
 दारुहस्तक—(सं. पुं.) काठका बना हुआ पौना ।
 दारों—(हि. पुं.) देखें 'दार्यों' ।
 दारोगा—(फा. पुं.) प्रबंध करनेवाला, थानेदार, थाने का प्रधान अधिकारी ।
 दारोगाई—(हि. स्त्री.) दारोगा का पद, काम आदि ।
 दारुदय—(सं. पुं.) दृढ़ता ।
 दारुदुर—(सं. पुं.) एक प्रकार का शंख, लाह, जल ।
 दारुदुरिक—(सं. पुं.) कुम्हार ।
 दारुभ—(सं. वि.) कुश संबंधी ।
 दारुयों—(हि. पुं.) दाड़िम, अनार ।
 दाव—(सं. पुं.) एक प्राचीन देश का नाम जो आजकल के काश्मीर देश के अन्तर्गत पड़ता है ।
 दारुवट—(सं. पुं.) मंत्रणागुह, वह कोठरी जिसमें बैठकर किसी विषय पर मनन किया जाता है ।
 दारुवाघाट—(सं. पुं.) कठफोड़वा पक्षी ।
 दारुवाघात—(सं. पुं.) काष्ठ पर आघात

करनेवाला कठफोड़वा, पक्षी ।
 दारुविका—(सं. स्त्री.) दारुहल्दी ।
 दारुविपत्रिका—(सं. स्त्री.) वनगोभी ।
 दारुवी—(सं. स्त्री.) वनगोभी, देवदार, दारुहल्दी ।
 दारुव—(सं. वि.) जो देखने से उत्पन्न हो, जो आँख से उत्पन्न हो ।
 दारुविक—(सं. पुं.) दर्शनशास्त्र जाननेवाला, तत्त्वज्ञानी; (वि.) दर्शनशास्त्र संबंधी ।
 दारुवद—(सं. वि.) पत्थर का बना हुआ, पापाण-निर्मित ।
 दारुवर्त—(सं. वि.) दृष्टान्तयुक्त, जो उदाहरण देकर समझाया गया हो ।
 दारुवर्तिक—(सं. वि.) दृष्टान्तयुक्त ।
 दारुव—(सं. पुं.) वृक्ष के खोखले में उत्पन्न मधु, कोदो नामक अन्न, रवे बनाने या दलन का काम ।
 दारुव—(हि. स्त्री.) दाला हुआ अन्न, दलिया, दली अरहर, मूंग आदि जो पानी में उबालकर तथा नमक, मसाला आदि मिलाकर रोटी या भात के साथ सालन की तरह खाई जाती है, वह पपड़ी जो चेचक, फोड़े आदि के सूखने पर पड़ जाती है, तुन जाति का एक वृक्ष; (मुहा.)—गलना-आशय सिद्ध होना; —में कुछ काला होना—कोई सन्देह-युक्त बात होना; जूतियों दाल बटना—आपस में कलह होना; —रोटी (स्त्री.) सामान्य भोजन; —मोट—(स्त्री.) घी, तेल आदि में तली तथा नमक-मिर्च मिलाई हुई दाल ।
 दारुवचीनी—(हि. स्त्री.) देखें 'दारुचीनी' ।
 दारुवन—(सं. पुं.) दाँत का एक रोग ।
 दारुव—(सं. पुं.) एक प्रकार का स्थावरविष ।
 दारुवा—(सं. स्त्री.) महाकाल नामक लता ।
 दारुवान—(फा. पुं.) ओसारा, बैठक ।
 दारुवलि—(सं. स्त्री.) दाड़िम, अनार ।
 दारुविका—(सं. स्त्री.) महाकाल नामक लता ।
 दारुवलिम—(सं. पुं.) दाड़िम, अनार ।
 दारुवलिम—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 दारुव—(हि. पुं.) कार्य साधन का उपाय, युक्ति, चाल, छल, कपट, खेलने की बारी, जीत का पासा 'या कौड़ी', स्थान, ठौर, अवसर, मौका, पारी, वार, अनुकूल संयोग, कुशती का पेच; (मुहा.)—करना—युक्ति लगाना, घात में बैठना; देना—किसी खेल में हार जाने पर जो दण्ड निश्चित हुआ हो उसको भोगना; —पर चढ़ना—पूर्ण रूप से किसी के वश

में होना; पर रखना या लगाना—स्पये-पैसे का पण या बाजी लगाना; —लगना—अच्छा अवसर मिलना; —लेना—बदला लेना ।
 दारुवना—(हि. क्रि. स.) सूखे हुए अन्न के डंठलों को मूसा तथा अन्न अलगाने के लिए बेलों से रौंदवाना ।
 दारुवरी—(हि. स्त्री.) रस्सी, डोरी ।
 दारुव—(सं. पुं.) वन, जंगल, वड़वानल, वन की आग, ताप, जलन; (हि. पुं.) एक प्रकार का शस्त्र, स्थान, जगह ।
 दारुवत—(अ. स्त्री.) भोज, ज्योनार, निर्मंत्रण, सहभोज ।
 दारुवदी—(हि. स्त्री.) गुलदावदी का फूल ।
 दारुवन—(हि. पुं.) दमन, नाश, एक प्रकार का टढ़ा छुरा, खुखड़ी, हँसिया ।
 दारुवना—(हि. क्रि. स.) देखें 'दाँवना', दमन करना, नष्ट करना ।
 दारुवनी—(हि. स्त्री.) देखें 'दाँवनी' ।
 दारुवरा—(हि. पुं.) धव नामक वृक्ष ।
 दारुवसु—(सं. पुं.) अङ्गिरा ऋषि के एक पुत्र का नाम ।
 दारुवा—(हि. स्त्री.) वन में बाँस तथा अन्य वृक्षों की डालियों के परस्पर रगड़ से उत्पन्न अग्नि ।
 दारुवा—(अ. पुं.) अपने अधिकार या स्वत्व की रक्षा या निर्णय के लिए न्यायालय में अपित प्रार्थनापत्र; —गौर, दार—(पुं.) दावा करनेवाला, वादी ।
 दारुवाग्नि—(सं. पुं.) जंगल में लगनेवाली अग्नि ।
 दारुवात—(हि. स्त्री.) दवात ।
 दारुवानल—(सं. पुं.) दावाग्नि, वन में लगनेवाली आग ।
 दारुवनी—(सं. स्त्री.) विजली, एक गहना जिसको स्त्रियाँ माथे पर पहिनती हैं ।
 दारुवी—(हि. पुं.) धव का पेड़ ।
 दारुव—(सं. पुं.) धीवर, केवट, मृत्यु, नौकर ।
 दारुवक—(सं. पुं.) धीवर, केवट ।
 दारुवग्राम—(सं. पुं.) धीवरों के रहने का गाँव ।
 दारुवनिनी—(सं. स्त्री.) व्यास की माता सत्यवती ।
 दारुवपुर—(सं. पुं.) धीवरों की बस्ती ।
 दारुवशय—(सं. पुं.) श्रीरामचन्द्र ।
 दारुवशयि—(सं. पुं.) दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र ।
 दारुवशु—(सं. वि.) दाता, देनेवाला, दिया हुआ ।
 दारुवशयी—(सं. स्त्री.) व्यास की माता सत्यवती ।
 दारुवशेरक—(सं. पुं.) मालवादेश, मारवाड़, मालवदेश का राजा ।

दाश्व-(सं. वि.) दानी, दानशील ।
 दास-(सं. पुं.) शूद्र, धीवर, सेवक, नौकर-
 चाकर, वह जिसने अपना जीवन स्वामी
 की सेवा में लगा दिया हो, भृत्य, एक
 उपाधि जो शूद्रों के नाम के अन्त में
 लगाई जाती है, दस्यु, वृत्रासुर; (वि.)
 घृणा या हीन भावना से युक्त; -ता-
 (स्त्री.), -त्व-(पुं.) सेवावृत्ति, गुलामी,
 अधीनता; -पत्नी-(स्त्री.) दास की
 स्त्री; -पन-(हिं. पुं.) दासत्व, सेवापन;
 -मित्र-(पुं.) दास का मित्र ।
 दासन-(हिं. पुं.) देखें 'डासन' ।
 दासा-(हिं. पुं.) वह पुरता जो भीत से
 सटाकर ऊँचाई पर बनाया जाता है
 और इस पर वस्तुएँ रखी जाती हैं वह
 चबूतरा जो आँगन के चारों ओर भीत
 से सटाकर उठाया जाता है, इसके
 ऊपर बैठाया हुआ मोटा पत्थर, लकड़ी
 या पत्थर जो द्वार के ऊपर भीत के
 आर-पार रहता है, हँसिया ।
 दासानुदास-(सं. पुं.) सेवक का सेवक,
 अति तुच्छ सेवक, (यह शब्द विनय तथा
 नम्रता दिखलाने के लिये प्रयुक्त होता है।)
 दासिका, दासी-(सं. स्त्री.) दास की
 पत्नी, टहलनी, लौंडी, नौकरानी, मल्ला-
 हिन, काकजंघा, कटसरैया, वेदी ।
 दासीत्व-(सं. पुं.) दासी का कर्म, सेवावृत्ति ।
 दासीपाद-(सं. वि.) जिसके पाँव दासी
 के समान हों ।
 दासेय-(सं. पुं.) दास, धीवर; (वि.)
 जो दास से उत्पन्न हो ।
 दासेयी-(सं. स्त्री.) व्यास की माता का नाम ।
 दासेर-(सं. पुं.) दास, धीवर ।
 दासेरक-(सं. पुं.) दासीपुत्र, ऊँट ।
 दास्य-(सं. पुं.) दासत्व, सेवा, भक्ति के
 नौ भेदों में से एक ।
 दास्यमान-(सं. वि.) दान दिया जाने-
 वाला (पदार्थ) ।
 दाल-(सं. पुं.) अश्विनी नक्षत्र ।
 दाह-(सं. पुं.) भस्म करने या जलाने की
 क्रिया, शव जलाने की क्रिया, जलन,
 दहन, सन्ताप, शोक, भारी दुःख,
 ईर्ष्या, वह रोग जिसमें प्यास अधिक
 लगती है और संपूर्ण शरीर में जलन
 महसूस होती है; -क-(वि.) जलाने-
 वाला; (पुं.) अग्नि, लाल चीते का
 वृक्ष; -ता-(स्त्री.) जलाने का गुण या
 गाव; -कर्म-(पुं.) शव फूंकने का काम;
 -काष्ठ-(पुं.) अगह की लकड़ी;
 क्रिया-(स्त्री.) दाहकर्म; -घ्न-(पुं.)

-शरीर को जलन मिटानेवाली औषध;
 -ज्वर-(पुं.) वह ज्वर जिसमें शरीर में
 बहुत गरमी मालूम होती है; -दा-(स्त्री.)
 नागवल्ली लता, पान की लता; -न-
 (पुं.) भस्म करने या जलाने की क्रिया;
 -मय-(वि.) दाहपूर्ण; -सर-(पुं.)
 श्मशान; -हरण-(पुं.) वीरण, ढस ।
 दाहना-(हिं. क्रि. स.) भस्म करना, जलाना,
 फूंकना; (हिं. वि.) दहिना ।
 दाहनागुरु-(सं. पुं.) अगर नामक गन्ध-द्रव्य ।
 दाहागुरु-(सं. पुं.) जलाने का अगर ।
 दाहिकाशक्ति-(सं. स्त्री.) जलाने की शक्ति ।
 दाहिना-(हिं. वि.) अपसव्य, दक्षिण, वार्या
 का उलटा, अनुकूल, प्रसन्न; (मुहा.)
 -हाथ होना-बड़ा सहायक होना;
 दाहिनी देना-दक्षिण की ओर से परि-
 क्रमा करना ।
 दाहिनावर्त-(हिं. वि.) देखें 'दक्षिणावर्त' ।
 दाहिन-(हिं. अर्थ.) दहिने हाथ की ओर ।
 दाही-(हिं. वि.) जलाने या भस्म करनेवाला ।
 दाहुक-(सं. वि.) दाहक, जलानेवाला ।
 दाह्य-(सं. वि.) जलाने योग्य ।
 दाहरी, दाहली-(हिं. स्त्री.) मिट्टी का
 बहुत छोटा दीया, दिउली ।
 दाहा-(हिं. पुं.) देखें 'दीया'; -बत्ती-
 (हिं. स्त्री.) देखें 'दियावत्ती'; -सलाई
 (स्त्री.) देखें 'दियासलाई' ।
 दिउली-(हिं. स्त्री.) धाव या फोड़े पर
 पड़ी हुई पपड़ी, दाल, मछली के ऊपर
 की चौई, सेहरा ।
 दिक्-(अ. पुं.) यक्ष्मा ज्वर; (वि.) तंग,
 परेशान ।
 दिक्कोड़ी-(हिं. स्त्री.) हड्डा, वरें ।
 दिक्-(सं. स्त्री.) दिशा, ओर ।
 दिक्क-(हिं. वि.) देखें 'दिक्' ।
 दिक्कन्या-(हिं. स्त्री.) दिशास्त्री कन्या,
 (पुराण के अनुसार सब दिशाएँ ब्रह्मा की
 कन्याएँ मानी जाती हैं ।)
 दिक्करी-(सं. स्त्री.) दिग्गज, युवती स्त्री ।
 दिक्कामिनी-(सं. स्त्री.) दिक्करी स्त्री ।
 दिक्कन-(हिं. पुं.) एक प्रकार का गन्ना ।
 दिक्कचक्र-(सं. पुं.) चक्रवाल, दस
 दिशाओं का समूह या गोलक ।
 दिक्दाह-(हिं. पुं.) देखें 'दिग्दाह' ।
 दिक्पति-(सं. पुं.) ज्योतिष के अनुसार
 दिशाओं के स्वामी-ग्रह, दस दिशाओं
 के पति ।
 दिक्पाल-(सं. पुं.) पुराण के अनुसार
 दस दिशाओं के पालन करनेवाले
 देवता, (पूर्व के देवता इन्द्र, अग्नि कोण के

अग्नि, दक्षिण के यम, नैऋत्य के नैऋत
 पश्चिम के वरुण, वायु कोण के मरुत्
 उत्तर के कुबेर, ईशान कोण के ईश्वर
 ऊर्ध्व दिशा के ब्रह्मा और अधोदिशा
 के देवता अनन्त हैं.) चौबीस मात्राओं
 का एक छन्द ।
 दिक्शूल-(सं. पुं.) दिनानुसार कुछ
 विशिष्ट दिशाओं में यात्रा का वर्जन;
 (दिक्शूल में यात्रा दिनानुसार वर्जित है
 -शुक्र और रविवार को पश्चिम,
 मंगल और बुध को उत्तर, सोम और
 शनिवार को पूरव तथा बृहस्पतिवार को
 दक्षिण दिशा में दिक्शूल माना जाता है ।
 दिक्साधन-(सं. पुं.) वह उपाय जिससे
 दिशाओं का ज्ञान होता है ।
 दिक्सुंदरी-(सं. स्त्री.) देखें 'दिक्कन्या' ।
 दिक्त्वामी-(सं. पुं.) दिशाओं के स्वामी ।
 दिक्षा-(हिं. स्त्री.) देखें 'दीक्षा' ।
 दिखना-(हिं. क्रि. अ.) दिखाई पड़ना, देखने
 में आना ।
 दिखलवाई-(हिं. स्त्री.) दिखलवाने के बदले
 दिया जानेवाला धन, देख 'दिखलाई' ।
 दिखलवाना-(हिं. क्रि. स.) दिखलाने में
 दूसरे को प्रवृत्त करना ।
 दिखलाई-(हिं. स्त्री.) दिखलाने की
 क्रिया या भाव, दिखलाने के बदले
 दिया हुआ धन ।
 दिखलाना-(हिं. क्रि. स.) दृष्टिगोचर
 कराना, दूसरे को देखने में प्रवृत्त करना,
 अनुभव कराना ।
 दिखलाई-(हिं. स्त्री.) देखने का काम,
 दिखाने का भाव, दिखाई के बदले
 दिया जानवाला धन ।
 दिखाऊ-(हिं. वि.) दर्शनीय, देखने योग्य,
 दिखीवा, बनावटी, जो केवल देखने
 योग्य हो पर काम न आ सके ।
 दिखाना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'दिखलाना' ।
 दिखाव-(हिं. पुं.) देखने का भाव या
 क्रिया, दृश्य ।
 दिखावट-(हिं. स्त्री.) दिखलाने का
 भाव या ढंग, ऊपरी तड़क-मड़क ।
 दिखावटी-(हिं. वि.) जो केवल देखने
 के योग्य हो पर काम न आ सके, दिखीवा
 दिखाव-(हिं. पुं.) आडंबर, ऊपरी तड़क-
 मड़क ।
 दिखया-(हिं. वि.) देखने या दिखलानेवाला ।
 दिखीआ(वा)-(हिं. वि.) दिखावटी, बनावटी ।
 दिगंत-(सं. पुं.) दिशाओं का छोर या
 अन्त, आकाश का छोर, क्षितिज, दस
 दिशाएँ; (हिं. पुं.) आँख का कोना ।

दिगंतर—(सं. पुं.) दो दिशाओं के बीच का स्थान, विपरीत दिशा ।
 दिगंबर—(सं. पुं.) शिव, महादेव, क्षपणक, यति, तम, अन्धकार, नंगा रहनेवाले जैन साधु; (वि.) नंगा, नग्न; -ता (स्त्री.) नग्नता, नंगापन ।
 दिगंबरी—(सं. स्त्री.) दुर्गा, पार्वती; (वि. स्त्री.) नगी ।
 दिगंश—(सं. पुं.) क्षितिज वृत्त का तीन-साँ-साठवाँ अंश; -यंत्र—(पुं.) वह यन्त्र जिसके द्वारा किसी नक्षत्र का दिगंश जाना जाता है ।
 दिगदंति—(हिं. पुं.) देखें 'दिग्गज' ।
 दिग्दीश्वर—(सं. पुं.) इन्द्रादि दिक्पाल ।
 दिग्गज—(सं. पुं.) पुराण के अनुसार आठों दिशाओं के आठ हाथी जो पृथ्वी को दबाये रखते हैं और इसकी रक्षा के लिये स्थापित हैं, (इन आठों हाथियों के नाम हैं—पूर्व में ऐरावत, पूर्व-दक्षिण कोण में पुंडरीक, दक्षिण में वामन, दक्षिण-पश्चिम में कुमुद, पश्चिम में अंजन, पश्चिमोत्तर कोण में पुष्पदंत, उत्तर में सार्वभौम और उत्तर-पूर्व कोण में सुप्रीतक); (वि.) बहुत भारी या बड़ा ।
 दिग्घ—(हिं. वि.) दीर्घ, लंबा बड़ा ।
 दिग्ज्ञान—(सं. पुं.) वह यंत्र या साधन जिससे सभी दिशाओं का ज्ञान हो ।
 दिग्ज्या—(सं. स्त्री.) दिशा का छोर ।
 दिग्दर्शक यंत्र—(सं. पुं.) डिबिया के आकार का एक चुंबकयुक्त यन्त्र जिससे दिशा का बोध होता है, कुतुबनुमा ।
 दिग्दर्शन—(सं. पुं.) वह यन्त्र जिससे दिशा का ज्ञान होता है, अभिज्ञता, वह जो उदाहरण के रूप में दिखलाया जाय ।
 दिग्दाह—(सं. पुं.) ध्रुवीय उत्पात विशेष जिसमें सूर्यास्त होने पर भी दिशाएँ जलती हुई लाल दिखाई पड़ती हैं ।
 दिग्देवता—(सं. स्त्री.) सभी दिशाओं के साक्षीभूत देवता, दिक्पाल ।
 दिग्ध—(सं. पुं.) विष में बुताया हुआ वाण, अग्नि, प्रेम, तैल, प्रबन्ध; (हिं. वि.) लंबा-चौड़ा ।
 दिग्घट—(हिं. पुं.) दिशारूपी वस्त्र, दिगंबर, नंगा ।
 दिग्पति, दिग्पाल—(हिं. पुं.) देखें 'दिक्पाल' ।
 दिग्बल—(सं. पुं.) ज्योतिष के अनुसार लग्नादि में स्थित ग्रहों का बल ।
 दिग्भाग—(सं. पुं.) दिशाओं के विभाग ।
 दिग्भ्रम—(सं. पुं.) दिशाओं का भ्रम होना, दिशा भूल जाना ।

दिग्भ्रान्त—(सं. वि.) जिसको दिशा का भ्रम हो गया हो ।
 दिग्मंडल—(सं. पुं.) सब दिशाएँ, दिशाओं का समूह ।
 दिग्ग्राज—(हिं. पुं.) देखें 'दिक्पाल' ।
 दिग्बदन—(सं. पुं.) सब दिशाओं में स्थित राशिभेद ।
 दिग्बसन—(हिं. पुं.) देखें 'दिग्बस्त्र' ।
 दिग्बस्त्र—(सं. पुं.) शिव, महादेव, जैन, क्षपणक; (वि.) नग्न, नंगा ।
 दिग्बान्—(सं. पुं.) पहरेदार, डचोढ़ीदार ।
 दिग्बरण—(सं. पुं.) दिग्गज ।
 दिग्वास—(सं. पुं.) शिव, महादेव, नंगा रहनेवाला जैन क्षपणक; (वि.) नग्न, नंगा ।
 दिग्बिजय—(सं. पुं.) राजाओं का युद्ध द्वारा चारों दिशाओं अथवा देश-देशान्तर में सेना लेकर जाना और युद्ध करके विजय प्राप्त करना, देश-देशान्तर में जाकर विद्या द्वारा अपना महत्त्व स्थापित करना ।
 दिग्बिजयी—(सं. वि.) दिग्बिजय करनेवाला, जिसने दिग्बिजय किया हो ।
 दिग्बिदिक—(सं. पुं.) सब दिशाएँ ।
 दिग्बिभाग—(सं. पुं.) दिशा, ओर ।
 दिग्बिलोकन—(सं. पुं.) शून्य दृष्टि ।
 दिग्बिवापी—(सं. वि.) जो सब दिशाओं में व्याप्त हो ।
 दिग्ब्रत—(सं. पुं.) जैनियों का एक व्रत ।
 दिग्बिखा—(सं. पुं.) पूर्व दिशा ।
 दिग्बिंधुर—(सं. पुं.) देखें 'दिग्गज' ।
 दिग्बिन्क्षत्र—(सं. पुं.) दिशाओं में अवस्थित नक्षत्र ।
 दिग्बिनाग—(सं. पुं.) दिग्गज, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थकार का नाम ।
 दिग्बिन्डल—(सं. पुं.) दिक्चक्र, दिशाओं का समूह ।
 दिग्बिमातंग—(सं. पुं.) दिग्गज ।
 दिग्बिमात्र—(सं. पुं.) उदाहरण मात्र ।
 दिग्बिम्ब—(सं. वि.) जिसको दिशा का भ्रम हुआ हो, मूर्ख ।
 दिग्बिमोह—(सं. पुं.) दिक्भ्रम, दिशा भूल जाना ।
 दिग्बिच्छत—(हिं. पुं.) देखें 'दीक्षित' ।
 दिग्बिठवन—(हिं. स्त्री.) देखें 'देवोत्थान' ।
 दिग्बिठाठी—(हिं. स्त्री.) देखो 'देखादेखी' ।
 दिग्बिठाना—(हिं. क्रि. सं.) बुरी दृष्टि लगाना ।
 दिग्बिठीना—(हिं. पुं.) काजल का टीका जो बालकों के माथे पर कुदृष्टि न लगने के लिये लगाया जाता है ।
 दिग्बिद—(हिं. वि.) देखें 'दृढ़' ।

दिग्दाना—(हिं. क्रि. सं.) दृढ़ करना, पोढ़ा करना, निश्चित करना ।
 दिग्दाव—(हिं. पुं.) दृढ़ बनावट ।
 दित—(सं. वि.) चौरा हुआ, फाड़ा हुआ ।
 दिति—(सं. स्त्री.) कश्यप ऋषि की स्त्री, दैत्यमाता; -कुल—(पुं.) दैत्यवंश; -ज—(पुं.) दिति के पुत्रगण, दैत्य; -तनय, -सुत—(पुं.) दैत्य, राक्षस ।
 दिव्य—(सं. पुं.) असुर, राक्षस; (वि.) जो छदने या काटने योग्य हो ।
 दिव्सा—(सं. स्त्री.) दान करने की इच्छा ।
 दिव्सु—(सं. वि.) जो दान करना चाहता हो ।
 दिव्दक्षमान—(सं. वि.) जो देखने की इच्छा करता हो ।
 दिव्दक्षा—(सं. स्त्री.) देखने की अभिलाषा ।
 दिव्दक्षु—(सं. वि.) जो देखना चाहता हो ।
 दिव्यु—(सं. पुं.) वज्र, वाण ।
 दिन—(सं. पुं.) सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय, साठ दंडों का परिमित काल, समय, काल, नियुक्त काल, निश्चित समय; (मूहा.) -काटना—किसी प्रकार निर्वाह करना; -को तारे दिखाई पड़ना—चित्त ठिकाने न रहना; -को दिन रात को रात न समझना—कार्य में इतना व्यस्त होना कि अपने शारीरिक सुख का ध्यान छोड़ देना; -चढ़ना—सूय का उदय होना, गर्भ परिपक्व होना; -डबना—सन्ध्या होना; -ढलना—सन्ध्या निकट होना; -दहाड़े—(अव्य.) सूर्य रहते, सबके सामने दिन के समय; -दूना रात चौगुना होना—जल्दी-जल्दी बढ़ना; -निकलना—सूर्योदय होना; -घरना—दिन निर्धारित करना; -पर दिन—प्रतिदिन; -फिरना—दुःख के बाद सुख के दिन आना; -भरना—दिन विताना; -रात—(अव्य.) सदा; -कत—(हिं. पुं.) दिनकर, सूर्य; -कर—(पुं.) सूर्य, मदार का वृक्ष; -कन्या—(स्त्री.) यमुना नदी; -तनय—(पुं.) शनि, यम, कर्ण, सुग्रीव; -देव—(पुं.) सूर्य-नारायण; -तनया—(स्त्री.) सूर्य की कन्या यमुना, ताप्ती; -कर्ता—(पुं.) सूर्य, अर्कवृक्ष; -कृत—(पुं.) देखें 'दिनकर्ता'; -केशर—(पुं.) अंधेरा; -क्षय—(पुं.) किसी तिथि का क्षय; -चर्या—(स्त्री.) दिन-भर का काम-धंधा, दिन भर में करने के कर्म या कर्तव्य; -चारी, -ज्योति, -द्वीप—(पुं.) सूर्य; -दुःखित—(पुं.) चकवा पक्षी; -नाथ, -नायक—(पुं.) सूर्य, दिनकर; -नाह—(पुं.) दिननाथ, सूर्य; -प, -पति—(पुं.)

सूर्य, अर्क वृक्ष; -पात-(पुं.) तिथि का क्षय; -पाल-(पुं.) सूर्य; -प्रेणी-(पुं.) सूर्य, अर्क वृक्ष; -बबु-(पुं.) सूर्य, मंदार का वृक्ष; -मणि-(पुं.) सूर्य, मंदार का वृक्ष; -मयूख-(पुं.) देखें 'दिन-मणि'; -मल-(पुं.) मास, महीना; -मान-(पुं.) सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय का मान; -माली-(पुं.) दिनकर, सूर्य; -मुख-(पुं.) प्रभात, सबेरा; -यौवन-(पुं.) मध्याह्न, दोपहर का समय; -रत्न-(पुं.) सूर्य, मंदार का पेड़; -राज-(पुं.) सूर्य, दिनकर।

दिनांत-(सं. पुं.) दिन का अंत, सन्ध्या, सूर्यास्त।

दिनांतक-(सं. पुं.) अंबकार।

दिनांध-(सं. वि.) जिसे दिन के समय दिखाई न पड़ता हो, दिवांध।

दिनारंभ-(सं. पुं.) प्रातःकाल, सबेरा।

दिनांश-(सं. पुं.) दिन के तीन अथवा पांच भागों में से एक भाग।

दिनाइ-(हिं. स्त्री.) दह, दाद का रोग।

दिनाई-(हिं. स्त्री.) ऐसी विपैली वस्तु जिसके खाने से थोड़े ही दिनों में मृत्यु हो जाय।

दिनागम-(सं. पुं.) प्रातःकाल, तड़का।

दिनाती-(हिं. स्त्री.) कर्मकारों या श्रमिकों का एक दिन का वेतन।

दिनाधीश-(सं. पुं.) सूर्य, मंदार का वृक्ष।

दिनावं-(सं. पुं.) मध्याह्न, दोपहर।

दिनावसान-(सं. पुं.) सन्ध्या, शाम।

दिनास्त-(सं. पुं.) सूर्यास्त, सन्ध्या, शाम।

दिनिका-(सं. स्त्री.) एक दिन का वेतन।

दिनी-(हिं. वि.) बहुत दिनों का, पुराना।

दिनर-(हिं. पुं.) दिनकर, सूर्य।

दिनेश-(सं. पुं.) अर्क-वृक्ष, दिन का अधिपति-ग्रह, सूर्य; (पुं.) कुमुद नामक फूल।

दिनेशात्मज-(सं. पुं.) शनि, यम, कर्ण, सुग्रीव।

दिनेश्वर-(सं. पुं.) दिनेश, सूर्य, अर्क-वृक्ष।

दिनोंधी-(हिं. स्त्री.) आँख का वह रोग जिसमें सूर्य के तीव्र प्रकाश में घुंघला दिखाई पड़ता है।

द्विपना-(हिं. क्रि. अ.) प्रकाशयुक्त होना, चमकना।

द्विपाना-(हिं. क्रि. स.) चमकाना।

द्विप्सु-(हिं. वि.) हानि पहुँचानेवाला।

द्विब-(हिं. वि.) देखें 'द्विब्य'; (पुं.) सत्यता प्रमाणित करने की एक परीक्षा।

द्विमाफ-(हिं. पुं.) देखें 'दिमाग'।

द्विमाफदार-(हिं. वि.) देखें 'दिमागदार'।

द्विमाग-(फा. पुं.) मस्तिष्क के भीतर

का गाढ़ा जमा हुआ द्रव पदार्थ या गूदा, मज्ज, बुद्धि, समझदारी, अक्ल; -दार-(वि.) बुद्धिमान, समझदार, अभिमानी; -दारी-(स्त्री.) बुद्धिमत्ता, समझ; (मुहा.)-(साँतव) आसमान पर होना-बहुत अभिमान करना; -खाना-बेकार किसी को अपनी बातों के आग्रह से खिन्न करना; -चढ़ना-अभिमान करना; -चाटना-दिमाग खाना।

दिमागी-(अ. वि.) दिमागदार।

दिमात-(हिं. वि.) जिसके दो माताएँ हों, दो माताओंवाला।

दिमाना-(हिं. वि.) देख 'दीवाना'।

दियट-(हिं. स्त्री.) देखें 'दीयट'।

दियना-(हिं. स्त्री.) दीयट।

दियरा-(हिं. पुं.) एक प्रकार का मीठा पकवान, देखें 'दीया'।

दिया-(हिं. पुं.) देखें 'दीया'।

दियानत-(हिं. स्त्री.) ईमानदारी; -दारी-(स्त्री.) देखें 'दियानत'।

दियावती-(हिं. स्त्री.) दीयाजलानेका काम।

दियासलाई-(हिं. स्त्री.) एक सिर पर गंधक आदि मसाला पोतकर बनाई हुई वह सींकजो रगड़ने से जल उठती है।

दिर-(हिं. पुं.) सितार का एक बोल।

दिरद-(हिं. पुं.) देखें 'द्विरद'।

दिरानी-(हिं. स्त्री.) देवरानी।

दिरिपक-(सं. पुं.) कन्दुक, गेंद।

दिरिस-(हिं. पुं.) देख 'दृश्य'।

दिल-(फा. पुं.) रक्त-संचार का हृदय-स्थित केंद्र, हृदय, मन, जी, हिम्मत, हौसला इच्छा; (मुहा.) (किसी से) अटकना-प्रेमासक्त होना; -कड़ा करना-साहस करना; -का खोटा-बुरा, कपटी; -का गुबार निकालना-मन का मलाल निकालना; -का बादशाह-बहुत उदार; -की आग बुझना-जी ठंडा होना; -की कली खिलना-अत्यधिक प्रसन्नता होना; -की दिल में रखना-मन की बात मन में ही रखना; -खट्टा होना-किसी के प्रति प्रेम-भाव लुप्त हो जाना; -देना-प्रेम में फँसना; -पक जाना-दिल को बहुत कष्ट होना; -भर आना-दया, कृपा आदि से मन व्यथित होना; -में आना-इच्छा होना; -में गाँठ पड़ना-द्वेष-भाव होना; -लगना-प्रेमासक्त होना; -से दूर करना-मुला देना; -चस्प-(वि.) जो रुचिकर जान पड़े, मनोरंजक; -चस्पी-(स्त्री.) रुचि, मनोरंजकता;

-चौर-(हिं. पुं.) काम करने में सुस्ती करनेवाला; -जला-(हिं. वि.) जिसका दिल जला हो, अत्यन्त दुःखी; -दरियाव (हिं. पुं.) अति उदार; -दार-(वि.) उदार, दानी, प्रेमी, रसिक; -दारी-(स्त्री.) उदारता, रसिकता; -पसंद-(वि.) जो दिल को अच्छा लगे; -बर-(वि.) दिलदार।

दिलवाना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'दिलाना'।

दिलवैया-(हिं. वि.) दिलानेवाला, सहायक।

दिलहा-(हिं. पुं.) देखें 'दिल्ला'।

दिलहदार-(हिं. वि.) देखें 'दिल्लेदार'।

दिलाना-(हिं. क्रि. स.) देने का कार्य दूसरे से कराना।

दिलावर-(फा. वि.) साहसी, हिम्मती, दिलेर।

दिलावरी-(फा. स्त्री.) बहादुरी, उदारता।

दिलासा-(हिं. पुं.) आश्वासन, ढाढ़स; -दम-दिलासा-(पुं.) देखें 'दिलासा'।

दिली-(हिं. वि.) हार्दिक, अति धनिष्ठ।

दिलीप-(सं. पुं.) इक्ष्वाकु वंश के एक प्रसिद्ध राजा का नाम, रघु के पूर्वज।

दिलेर-(फा. वि.) दिलावर।

दिल्लगी-(फा. स्त्री.) हँसी, मजाक, परिहास; -बाज-(वि.) मजाक करनेवाला, परिहासी।

दिल्ला-(हिं. पुं.) किवाड़ के पल्ले में जड़ा हुआ लकड़ी का चौखूँटा, टुकड़ा।

दिल्लीवाल-(हिं. वि.) दिल्ली नगर का, दिल्ली में रहनेवाला; (पुं.) एक प्रकार का दिल्ली का बना हुआ देशी जूता।

दिवंगत-(सं. वि.) मृत, स्वर्गगत।

दिवंगम-(सं. वि.) स्वर्गगामी।

द्वि-(सं. पुं.) आकाश, दिन, सोना; वन, जंगल।

द्विब्य-(सं. वि.) स्वर्गीय; (पुं.) इन्द्र।

द्विबृह-(सं. पुं.) देखें 'द्विबृह'।

द्विवरानी-(हिं. स्त्री.) देखें 'देवरानी'।

द्विबल-(हिं. पुं.) दीया।

द्विबस-(सं. पुं.) दिन, वासर; -कर-(पुं.) सूर्य, मंदार का वृक्ष; -कृत्, -नाथ, -भर्ता-(पुं.) दिवाकर, सूर्य; -मुख-(पुं.) प्रभात, सबेरा; -मुद्रा-(स्त्री.) एक दिन का वेतन; -विगम-(पुं.) सन्ध्याकाल।

द्विबसांतर-(सं. पुं.) दूसरा दिन।

द्विबसेश्वर-(सं. पुं.) सूर्य, दिनकर।

द्विबस्पति-(सं. पुं.) सूर्य, तेरहवें मन्वन्तर के इन्द्र का नाम।

दिवस्पृश—(सं. पुं.) विष्णु जिन्होंने वामन अवतार में स्वर्ग को पैर से छुआ था।
 दिवांघ—(सं. पुं.) उल्लू; (वि.) जिसको दिन मन सूझता हो, दिनोंधी के रोगवाला।
 दिवा—(सं. पुं.) दिवस, दिन, वाईस अक्षरों का एक वर्ण-वृत्त।
 दिवाकर—(सं. पुं.) सूर्य, अर्क वृक्ष, कौवा।
 दिवाकरसुत—(सं. पुं.) सूर्य के पुत्र, शनि, यम, कर्ण और सुग्रीव।
 दिवाकीर्ति—(सं. पुं.) नापित, नाई, चाण्डाल, उल्लू।
 दिवाचर—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, चाण्डाल।
 दिवाचारी—(सं. वि.) दिन में चलनेवाला (प्राणी)।
 दिवान—(हिं. पुं.) दीवान, मन्त्री।
 दिवाना—(हिं. पुं.) देखें 'दीवाना'; (क्रि. स.) दिलवाना।
 दिवानाथ—(हिं. पुं.) सूर्य।
 दिवानिश—(सं. स्त्री., अव्य.) रात-दिन।
 दिवानी—(हिं. स्त्री.) देखें 'दीवानी'।
 दिवापृष्ठ—(सं. पुं.) सूर्य, दिवाकर।
 दिवाप्रदीप—(सं. पुं.) नीच पुरुष।
 दिवाभितारिका—(सं. स्त्री.) वह नायिका जो शृंगार करके दिन में अपने प्रेमी से मिलने को निर्दिष्ट स्थान में जाय।
 दिवाभीत—(सं. पुं.) उल्लू, सफेद कमल, चोरा।
 दिवाभीति—(सं. वि.) जिसको दिन में बाहर निकलने में भय हो।
 दिवाभणि—(सं. पुं.) सूर्य, अर्कवृक्ष।
 दिवाभ्य—(सं. पुं.) मध्याह्न, दोपहर।
 दिवाल—(हिं. वि.) दाता, देनेवाला; (स्त्री.) भीत।
 दिवाला—(हिं. पुं.) महाजन, व्यापारी आदि की वह अवस्था जब उसके पास अपना ऋण चुकाने के लिये धन न रह जाय; (मुहा०) -निकलना- दिवाला होना; -मारना- ऋण चुकाने योग्य न रह जाना।
 दिवालिधा—(हिं. वि.) जिसके पास ऋण चुकाने के लिये धन न बचा हो।
 दिवाली—(हिं. स्त्री.) देखें 'दीपावली दीवाली'।
 दिवावसान—(सं. पुं.) सन्ध्या, शाम।
 दिवावसु—(सं. पुं.) सूर्य, मदार का वृक्ष।
 दिवाशय—(सं. पुं.) बदली का दिन, अँघेरा दिन।
 दिवासंचर—(सं. पुं.) दिन में घूमनेवाला प्राणी।
 दिवास्वप्न—(सं. पुं.) दिन में सोना, व्यर्थ कल्पना।
 दिवास्वाप—(सं. पुं.) दिवा, स्वप्न, दिनमें सोना।

दिवास्वापा—(सं. पुं.) बगला पक्षी।
 दिवि—(सं. पुं.) नीलकण्ठ पक्षी।
 दिविक्षय—(सं. वि.) स्वर्गवासी।
 दिविगत—(सं. वि.) जो स्वर्ग को सिधारा हो।
 दिविचर, दिविचारी—(सं. वि.) आकाश-गामी, आकाश में घूमनेवाला।
 दिविज—(सं. पुं.) वह जो स्वर्ग में उत्पन्न हो।
 दिविजात—(सं. वि.) स्वर्ग में उत्पन्न।
 दिविता—(सं. स्त्री.) द्युति, दीप्ति, चमक।
 दिवियोनि—(सं. वि.) जिसका जन्म स्वर्ग में हुआ हो।
 दिविषद्—(सं. पुं.) देवता; (वि.) स्वर्गवासी।
 दिविषट्भ—(सं. वि.) स्वर्ग में स्थापित।
 दिविषिट—(सं. पुं.) याग, यज्ञ।
 दिविषठ—(सं. वि.) स्वर्ग में रहनेवाला।
 दिविसृश—(सं. वि.) स्वर्ग को स्पर्श करनेवाला।
 दिवी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का कीड़ा।
 दिवेश—(सं. पुं.) दिक्पाल।
 दिवेया—(हिं. वि.) देनेवाला, जो देता हो।
 दिवोकस्—(सं. पुं.) देवता, चातक पक्षी; (वि.) आकाशगामी।
 दिवोजा—(सं. वि.) जो स्वर्ग में उत्पन्न हुआ हो।
 दिवोदास—(सं. पुं.) एक चन्द्रवंशी राजा का नाम जो काशी में राज्य करते थे।
 दिवोद्भव—(सं. वि.) स्वर्गजात, स्वर्ग में उत्पन्न; (स्त्री.) इलायची।
 दिवोल्का—(सं. स्त्री.) वह उल्का या चमकीला पिण्ड जो दिन में आकाश से गिरता हो।
 दिवोकस—(सं. पुं.) देवता।
 दिवोकस्—(सं. पुं.) देवता, चातक पक्षी; (वि.) स्वर्ग में रहनेवाला।
 दिवोका—(हिं. पुं.) स्वर्ग में रहनेवाला देवता।
 दिव्य—(सं. वि.) स्वर्गीय, स्वर्ग से संबंध रखनेवाला, आकाश-संबंधी, प्रकाश-मान्, चमकीला, अति सुन्दर, अलौकिक, अच्छी तरह स्वच्छ किया हुआ; (पुं.) यम, गुग्गुलु, लवंग, हरिचन्दन, गंगाजल लेकर शपथ, तत्त्ववेत्ता, वह जो स्वर्ग में उत्पन्न हो, यव, जौ, सुअर, दैवविद् एक प्रकार का आकाशीय उत्पात, स्वर्गीय अथवा अलौकिक नायक, अपराधी या निरपराधी सिद्ध करने के लिये एक प्रकार की प्राचीन परीक्षा; (स्त्री.) सतावर, ब्राह्मी, सफेद दूब, हरे; -क—(पुं.) एक प्रकार का सर्प; -कवच—(पुं.) देवताओं का दिया हुआ कवच, अंगरक्षक स्तोत्र विशप; -क्रिया—

(स्त्री.) दिव्य द्वारा सत्य की परीक्षा करने की विधि; -गंध—(पुं.) मनोहर गन्ध, लवंग; -गंधा—(स्त्री.) बड़ी इलायची; -गायक—(पुं.) गन्धर्व; -चक्षु—(पुं.) ज्ञानचक्षु, सुन्दर आँख, उपनेत्र, बन्दर, एक प्रकार का सुगन्ध-द्रव्य; (वि.) अन्धा; -चंदन—(पुं.) हरिचन्दन; -ता—(स्त्री.) दिव्य का भाव, उत्तमता, सुन्दरता; -दर्शी—(वि.) अलौकिक तथ्यों को जाननेवाला; -दोहद—(पुं.) अभीष्ट-सिद्धि के लिये देवता को अर्पण किया हुआ पदार्थ; -दृष्टि—(स्त्री.) अलौकिक दृष्टि, दिव्य-चक्षु; -धर्मी—(वि.) सुशील, अच्छा; -नगर—(पुं.) ऐरावती नगरी; -नदी—(स्त्री.) आकाश-गङ्गा; -नारी—(स्त्री.) दिव्य स्त्री, अप्सरा; -पुष्प—(पुं.) सुन्दर फूल, कनेर; -पुष्पिका—(स्त्री.) लाल रंग का मदार; -रत्न—(पुं.) चिन्तामणि रत्न जो सब कामनाओं को पूर्ण करता है; -रथ—(पुं.) देवताओं का विमान; -रस—(पुं.) मीठा रस, पारा; -लता—(स्त्री.) दुर्वा लता; -वस्त्र—(पुं.) सूर्य का प्रकाश, सुन्दर वस्त्र; -वाचय—(पुं.) देववाणी, आकाशवाणी; -वाह—(स्त्री.) वृषभानु नामक गोप की एक कन्या का नाम; -श्रोत—(पुं.) वह कान जिससे सब कुछ सुनाई पड़े; -सरित्—(स्त्री.) आकाश-गंगा; -सार—(पुं.) साखू का पेड़; -सूरि—(पुं.) रामानुज संप्रदाय के बारह आचार्य जिनके नाम—भूत, महत् भक्तिसार, शठारि, कुलशेखर, विष्णुचित्त, भक्तांघ्रिरेणु, मुनिवाह, चतुष्कवीन्द्र, रामानुज और गोदा देवी—हैं; -स्त्री—(स्त्री.) देवांगना, अप्सरा।
 दिव्यांगना—(सं. स्त्री.) अप्सरा।
 दिव्यांशु—(सं. पुं.) दिवाकर, सूर्य।
 दिव्या—(सं. स्त्री.) घात्री, घाय, शतावर, ब्राह्मी वृटी, बड़ा जीरा, सफेद दूब, हरे, दिव्य-नायिका।
 दिव्यादिव्य—(सं. पुं.) वह नायक जिसमें देवता के भी गुण हों।
 दिव्यादिव्या—(सं. स्त्री.) वह नायिका जिसमें स्वर्गीय या अलौकिक गुण हों।
 दिव्याश्रम—(सं. पुं.) पुण्याश्रम, पवित्र आश्रम।
 दिव्यासन—(सं. पुं.) तन्त्र के अनुसार एक प्रकार का आसन।
 दिव्यास्त्र—(सं. पुं.) देवताओं का दिया हुआ अस्त्र, मन्त्रों की शक्ति से चलानेवाला अस्त्र।

दिव्योदक—(सं. पुं.) वर्षा का पानी ।
 दिव्यौषधि—(सं. पुं.) मैनसिल ।
 दिश—(सं. स्त्री.) दिक्, दिशा ।
 दिशा—(सं. स्त्री.) ओर, क्षितिज वृत्त के चार कल्पित विभागों में से एक विभाग या विस्तार जिनको पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण कहते हैं; दो संलग्न दिशाओं के बीच के कोणों के नाम जो इस प्रकार हैं—पूर्व और दक्षिण के बीच के कोण का नाम अग्निकोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच के कोण का नाम नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण का नाम वायव्य कोण तथा उत्तर और पूर्व के कोण का नाम ईशान कोण है, रुद्र की एक पत्नी का नाम, दस की संख्या; -गज—(पुं.) दिग्गज; -चक्षु—(पुं.) गरुड़ के एक पुत्र का नाम; -पाल—(पुं.) देखें 'दिक्पाल'; -भ्रम—(पुं.) दिशा के विषय में भ्रम होना; -शूल—(पुं.) देखें 'दिक्शूल' ।
 दिशि—(हिं. स्त्री.) देखें 'दिशा' ।
 दिशेभ—(सं. पुं.) दिग्गज ।
 दिशोदंड—(सं. पुं.) अनादर द्वारा दण्ड ।
 दिश्य—(सं. वि.) दिशा सम्बन्धी ।
 दिष्ट—(सं. पुं.) भाग्य, काल, वैवस्वत मनु के एक पुत्र का नाम, दाखुहल्दी; (वि.) दिखलाया हुआ, उपदेश किया हुआ, दिया हुआ ।
 दिष्टबंधक—(हिं. पुं.) वह बंधक जिसमें महाजन को केवल रुपये का सूद मिलता है और बंधक रखी हुई वस्तु पर स्वत्वा अधिकार नहीं प्राप्त होता ।
 दिष्टांत—(सं. पुं.) मरण, मृत्यु, मौत ।
 दिष्टि—(सं. स्त्री.) हर्ष, उपदेश, कथन, उत्सव, भाग्य ।
 दिष्णु—(सं. वि.) दाता, देनेवाला ।
 दिशंतर—(हिं. पुं.) देशान्तर, विदेश, परदेश; (अव्य.) बहुत दूर तक ।
 दिस—(हिं. स्त्री.) दिशा ।
 दिसाना—(हिं. क्रि. अ.) दिखना, दिखाई पड़ना ।
 दिसा—(हिं. स्त्री.) देखें 'दिशा', मलत्याग ।
 दिसादाह—(हिं. पुं.) देखें 'दिग्दाह' ।
 दिसावर—(हिं. पुं.) देशान्तर, परदेश, दूसरा देश ।
 दिसावरी—(हिं. वि.) विदेश से आया हुआ, बाहरी ।
 दिसासूल—(हिं. पुं.) देखें 'दिक्शूल' ।
 दिसि—(हिं. स्त्री.) दिशा ।
 दिसिदुरद—(हिं. पुं.) देखें 'दिग्गज' ।
 दिसिनायक—(हिं. पुं.) देखें 'दिक्पाल' ।

दिसिप—(हिं. पुं.) दिक्पाल, दिसिनायक ।
 दिसिराज—(हिं. पुं.) देखें 'दिसिनायक' ।
 दिसैया—(हिं. वि.) देखने या दिखलानेवाला ।
 दिस्ता—(हिं. पुं.) देखों 'दस्ता' ।
 दिस्ता—(हिं. स्त्री.) ओर ।
 दिहंदा—(फा. वि.) देनेवाला ।
 दिहली—(हिं. स्त्री.) देहली, दहलीज ।
 दिहात—(हिं. स्त्री.) देखें 'देहात' ।
 दिहाती—(हिं. वि.) देखें 'देहाती', ग्रामीण ।
 दिहातीपन—(हिं. पुं.) देहातीपन, ग्रामीणता ।
 दीअट—(हिं. स्त्री.) देखें 'दीयट' ।
 दीआ—(हिं. पुं.) देखें 'दीया' ।
 दीक—(हिं. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष ।
 दीक्षक—(सं. वि.) दीक्षा देनेवाला, उपदेश देनेवाला, शिक्षक ।
 दीक्षण—(सं. पुं.) दीक्षा देने की क्रिया ।
 दीक्षणीय—(सं. वि.) दीक्षा-संस्कार के योग्य वस्तु, (व्यक्ति, विषय आदि) ।
 दीक्षांत—(सं. पुं.) उपावि-वितरण समारोह ।
 दीक्षा—(सं. स्त्री.) सोमयागादि का संकल्पपूर्वक अनुष्ठान, यज्ञकर्म, यजन, पूजन, नियम, उपनयन संस्कार जिसमें गुरु गायत्री-मन्त्र का उपदेश देता है, यज्ञोपवीत, गुरु से नियमपूर्वक मन्त्र ग्रहण करना, गुरुमन्त्र, शैक्षणिक उपाधि; -गुरु—(पुं.) वह जो दीक्षा देता हो, मन्त्र का उपदेश करनेवाला; -पाल—(पुं.) दीक्षापति सोम ।
 दीक्षित—(सं. वि.) जिसने आचार्य आदि से विधिपूर्वक दीक्षा ली हो, जिसने सोम यज्ञ आदि का संकल्पपूर्वक अनुष्ठान किया हो; (पुं.) ब्राह्मणों की एक उपाधि ।
 दीक्षितायनी—(सं. स्त्री.) दीक्षित की स्त्री ।
 दीखना—(हिं. क्रि. अ.) दृष्टिगोचर होना, दिखाई पड़ना ।
 दीधी—(हिं. स्त्री.) दीघिका, तालाव, पोखरी ।
 दीच्छा—(हिं. स्त्री.) देखें 'दीक्षा' ।
 दीठ, दीठि—(हिं. स्त्री.) नेत्र की ज्योति, देखने की शक्ति, दृष्टिपात, दृक्पथ, आंख की ज्योति का प्रसार, देखने के लिये खुली हुई आंख, किसी अच्छी वस्तु पर ऐसी दृष्टि डालना जिसका बुरा प्रभाव पड़े, देखभाल, निरीक्षण, पहचान, कृपादृष्टि, संकल्प, उद्देश्य, आशा; (मुहा.)—उतारना—झाड़-फूंककर बुरी दृष्टि का प्रभाव हटाना; -खा जाना—टोक लग जाना; -जलाना—राई, नमक आदि का अग्नि में डालना; -वंद—(पुं.) इन्द्रजाल, जादू; -वंदी—(स्त्री.) जादू; -वंत—(वि.) जिसको

दिखलाई पड़े ।
 दीति—(सं. स्त्री.) दीप्ति, प्रकाश ।
 दीदा—(हिं. पुं.) दृष्टि, नजर, निगाह ।
 दीदार—(फा. पुं.) दर्शन, साक्षात्कार ।
 दीदिव—(सं. पुं.) स्वर्ग, वृहस्पति, अन्न, खाने की वस्तु; (अव्य.) फिरफिर, बारंबार ।
 दीदी—(हिं. स्त्री.) बड़ी बहिन को पुकारने का शब्द ।
 दीधिति—(सं. स्त्री.) सूर्य, चन्द्रमा आदिकी किरण, अंगुल, अंगुली; -मान्—(पुं.) सूर्य ।
 दीन—(सं. वि.) दुःखित, दरिद्र, उदास, हीन, कातर, सन्तप्त, क्षुब्ध, नम्र, विनीत ।
 दीनता—(सं. स्त्री.) दरिद्रता, नम्रता ।
 दीनताई—(हिं. स्त्री.) दीनता, विनीत भाव ।
 दीनत्व—(सं. पुं.) दीनता ।
 दीनदयालु—(सं. वि.) दुखियों पर दया करनेवाला, (पुं.) परमेश्वर का एक नाम ।
 दीनबंधु—(सं. पुं.) वह जो दुःखियों की सहायता करता है, ईश्वर का एक नाम ।
 दीनसाधक—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 दीना—(सं. स्त्री.) मूसा, चुहिया; (वि. स्त्री.) दरिद्र ।
 दीनानाथ—(सं. पुं.) दुःखियों का रक्षक, परमेश्वर ।
 दीनार—(सं. पुं.) सोने का आमूषण, सुवर्णमुद्रा, निष्क की तौल, सोने की मोहर, आठ रत्नों की तौल ।
 दीनारी—(हिं. पुं.) लोहारों का ठप्पा ।
 दीपकर—(सं. पुं.) बुद्ध का एक अवतार ।
 दीप—(सं. पुं.) जलती हुई बत्ती, दीया, दस मात्राओं का एक छन्द, शिरोमणि; (हिं. पुं.) देख 'दीप' ।
 दीपक—(सं. पुं.) एक वाक्यालंकार जिसमें प्रस्तुत (वर्णनीय) और अप्रस्तुत (अवर्णनीय) विषय का एक ही धर्म कहा जाता है अथवा जिसमें अनेक कार्यों का करनेवाला एक ही होता है, संगीत के छः रागों में एक राग, एक ताल का नाम, दीया, श्येन पक्षी, अज-वाइन, केसर, एक प्रकार की अग्नि-क्रीड़ा; (वि.) प्रकाश फैलानेवाला, पाचन शक्ति को तीव्र करनेवाला, उत्तेजक; -माला—(स्त्री.) दस अक्षरों का एक छन्द, दीपक अलंकार का एक भेद; -वृक्ष—(पुं.) एक प्रकार का बड़ा दीवट जिसमें दिए रखने के लिये अनेक शाखाएँ होती हैं; -सुत—(पुं.) कज्जल, काजल ।
 दीपकलिका, दीपकली—(सं. स्त्री.) दिया की टेम ।
 दीपकाल—(सं. पुं.) सन्ध्या समय, दीया

जलाने का समय ।
 दीपकट्ट—(सं. पुं.) कज्जल, काजल ।
 दीपकूपी, दीपखोरी—(सं. स्त्री.) दीये की वत्ती ।
 दीपकावृत्ति—(सं. पुं.) दीपक अलंकार का एक भेद ।
 दीपत(ति)—(हि.स्त्री.) कान्ति, शोभा, कीर्ति ।
 दीपदान—(सं. पुं.) किसी देवता के सामने दीपक जलाने का कार्य, कार्तिक के महीने में राधा-दामोदर के सामने दीपमालाएँ जलाने का काम ।
 दीपदानी—(हि. स्त्री.) धी में बोरी हुई वत्ती रखने की डिबिया ।
 दीपध्वज—(सं. पुं.) कज्जल, काजल ।
 दीपन—(सं. पुं.) कुंकुम, केसर, प्याज, एक प्रकार का शाक, कसौदा, मंत्र के संस्कारों का एक भेद, प्रज्वलित करने का काम, आवेग उत्पन्न करना, क्षुधा को तीव्र करना, उत्तेजन; (वि.) दीपन करनेवाला, भूख बढ़ानेवाला ।
 दीपना—(हि. क्रि. अ., स.) प्रकाशित होना, चमकना, जगमगाना, चमकाना ।
 दीपनी—(सं. स्त्री.) मेथी, अजवाइन पाठा, ककड़ी ।
 दीपनीय—(सं. वि.) दीपन करने योग्य ।
 दीपपादप—(सं. पुं.) दीपवृक्ष, दीवट ।
 दीपपुष्प—(सं. पुं.) चम्पा का फूल ।
 दीपभाजन—(सं. पुं.) दीपपात्र, दीवट ।
 दीपमाला—(सं. स्त्री.) जलते हुए दीपकों की पंक्ति ।
 दीपमालिका—(सं. स्त्री.) जलते हुए दीपकों की पंक्ति, दीवाली ।
 दीपमाली—(हि. स्त्री.) दीवाली ।
 दीपवत्—(सं. वि.) जिसके घर में दिये जलते हों, दीप जैसा ।
 दीपवृक्ष—(सं. पुं.) दीवट, दीयट, दीपाघार ।
 दीपशत्रु—(सं. पुं.) पतंग, फर्तगा ।
 दीपशिखा—(सं. स्त्री.) काजल, दिय की टेम ।
 दीपशृङ्खला—(सं. स्त्री.) जलते हुए दीपकों की पंक्ति ।
 दीपसुत—(सं. पुं.) कज्जल, काजल ।
 दीपान्वित—(सं. वि.) दीपयुक्त ।
 दीपान्विता—(सं. स्त्री.) कार्तिक मास की अभावस्था, दीवाली ।
 दीपावती—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 दीपावली—(सं. स्त्री.) दीपकों की पंक्ति, दीवाली ।
 दीपिका—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम; (वि. स्त्री.) दीपन करने वाली, उजाला फैलानेवाली ।

दीपित—(सं. वि.) प्रकाशित, प्रज्वलित, चमकता हुआ, उत्तेजित ।
 दीपोत्सव—(सं. पुं.) दीपावली, दीवाली ।
 दीप्त—(सं. वि.) प्रज्वलित, जलता हुआ, चमकता हुआ, जगमगाता हुआ, उज्वल, सफेद, प्रकाशमय; (पुं.) सुवर्ण, हींग, नीबू, सिंह, नाक का एक रोग; -कंस—(पुं.) शुद्ध कांसा घातु; -क—(पुं.) सोना; -किरण—(पुं.) सूर्य, अर्क वृक्ष; -कीर्ति—(वि.) जिसका यश दूर तक फैला हो; (पुं.) कार्तिकेय; -जिह्वा—(स्त्री.) शृगाली, सियारिन; -पिगल—(पुं.) सिंह, शर; -मूर्ति—(पुं.) जो मूर्ति बहुत सफेद हो, विष्णु; -रस—(पुं.) कंचुआ; -लोचन—(पुं.) विडाल, विल्ली; -लौह—(पुं.) तपाया हुआ लाल लोहा, कांसा; -वर्ण—(वि.) जिसका रंग सोने के समान चमकता हो; (पुं.) कार्तिकेय; -शक्ति—(पुं.) देखें 'दीप्तवर्ण' ।
 दीप्तांग—(सं. वि.) जिसका अंग चमकता हो; (पुं.) मयूर, मोर ।
 दीप्तांशु—(सं. पुं.) सूर्य, अर्क-वृक्ष ।
 दीप्ता—(सं. स्त्री.) ज्योतिष्मती लता; (वि. स्त्री.) चमकती हुई ।
 दीप्ताक्ष—(सं. वि.) जिसकी आँखें चमकीली हों; (पुं.) विडाल, विल्ली ।
 दीप्ताग्नि—(सं. पुं.) अगस्त्य मुनि ।
 दीप्ति—(सं. पुं.) द्युति, प्रकाश, उजाला, प्रभा, चमक, कान्ति, छवि, शोभा, ज्ञान का प्रकाश, लौह, लाक्षा, एक विश्वदेव का नाम; -मान्—(वि.) दीप्तियुक्त, चमकता हुआ, शोभायुक्त, कान्ति-युक्त; (पुं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम जो सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न थे ।
 दीप्तोपल—(सं. पुं.) सूर्यकान्त मणि ।
 दीप्य—(सं. पुं.) अजवाइन, जीरा, रुद्र-जटा; (वि.) जो दीपन के योग्य हो ।
 दीप्यक—(सं. पुं.) अजवाइन, अजमोदा, लाल चीता, रुद्रजटा, कुंकुम, केसर, तगर, नीबू का पेड़, श्येन पक्षी ।
 दीप्यका—(सं. स्त्री.) अजवाइन ।
 दीप्यमान—(सं. वि.) प्रज्वलित, चमकता हुआ ।
 दीप्या—(सं. स्त्री.) पिण्डखजूर, अजवाइन ।
 दीमक—(फा. स्त्री.) चींटी की तरह का सफेद कीड़ा जो कागज, लकड़ी आदि पदार्थ बहुत शीघ्र चाट जाता है, बल्मीक ।
 दीयट—(हि. पुं.) देखें 'दीवट' ।
 दीयमान—(सं. वि.) जो देने योग्य हो ।
 दीया—(हि. पुं.) वह वत्ती जो प्रकाश

के लिये जलाई जाती है, दीपक; (स्त्री.) वह पात्र जिसमें तेल डालकर वत्ती जलाई जाती है; (मुहा.) -ठंडा करना-दीपक बुताना; (किसी के घर का) -ठंडा होना-किसी के मरने के कारण परिवार में अंधकार छा जाना; -बढ़ाना-दीया बुझाना; -वत्ती करना-दीपक जलाने का प्रबंध करना; -लेकर ढूँढ़ना-चारों ओर व्यग्र होकर किसी वस्तु को ढूँढ़ना ।
 दीयासलाई—(हि. स्त्री.) वह सीक जिसके छोर पर गंधकयुक्त मसाला लगा होता है और जो रगड़ने से जल उठती है ।
 दीर्घ—(सं. वि.) आयत, लंबा, बड़ा; (पुं.) एक प्रकार का साल का पेड़, ऊँट, नरकट, ज्योतिष में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियाँ, द्विमात्रा-वर्ण अर्थात् वह वर्ण जिसका उच्चारण खींचकर होता है; यथा-आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ, संगीत में दो मात्राओं का स्वर; -कंठक—(पुं.) वगूल का पेड़; -कंठ—(पुं.) वगुला, एक दानव का नाम; (वि.) जिसकी गरदन लंबी हो; -कंठक—(पुं.) वगुला; -कंदक—(पुं.) मालाकन्द, मूली; -कंदिका—(स्त्री.) तालमूली, मूसली; -कंधर—(वि.) जिसकी गरदन लंबी हो; (पुं.) वगुला पक्षी; -कणा—(स्त्री.) सफेद जीरा; -कर्ण—(वि.) जिसके कान लंबे हों; -कांड—(पुं.) एक प्रकार की घास; -काय—(वि.) लंबे-चौड़े शरीरवाला; -काल—(पुं.) अनेक दिन; -कील—(पुं.) अंकोल का वृक्ष; -कुल्या—(स्त्री.) गजपिप्पली; -कूरक—(पुं.) एक प्रकार का बढ़िया धान; -केश—(पुं.) माल; (वि.) जिसके बाल लंबे हों; -कोशिका—(स्त्री.) शक्ति, सुतही; -गति—(पुं.) ऊँट; (वि.) लंबा डग मारनेवाला; -गमन—(पुं.) तीव्र गति; -ग्रंथि—(स्त्री.) गजपिप्पली, गजपीपल; -प्रीव—(वि.) जिसकी गरदन लंबी हो; (पुं.) ऊँट; -घाटिका—(पुं.) ऊँट, वकुला; -च्छद—(पुं.) इक्षु, ऊख; (वि.) जिसके पत्ते लंबे हों; -जंघ—(पुं.) ऊँट, वकुला, (वि.) जिसकी जाँघें लंबी हों; -जिह्व—(पुं.) सर्प; एक राक्षस का नाम; (वि.) जिसकी जीभ लंबी हो; -जिह्वा—(स्त्री.) एक राक्षसी जिसकी उदरने मारा था, कार्तिकेय की, एक

अनुचरी; -जिह्वी-(पुं.) कुक्कुर, कुत्ता; -जीवी-(वि.) बहुत दिनों तक जीनेवाला; -तंतु-(पुं.) लंबा तागा; -तमा-(पुं.) उपथ्य के पुत्र का नाम, (उनकी स्त्री का नाम ममता था। वे जन्मान्ध थे।); -तर-(पुं.) ताड़ का वृक्ष; -ता-(स्त्री.) लंबाई; -तिमिषा-(स्त्री.) खीरा ककड़ी; -तुंडा-(स्त्री.) छल्लूदरी; -तृण-(पुं.) लंबी घास; -दंड-(पुं.) रेंड का वृक्ष, ताड़ का पेड़; -दंडी-(स्त्री.) गोरखमुंडी; -दक्षिणा-(स्त्री.) बहुदक्षिणा, दूरदक्षिणा; -दर्शी-(पुं.) वह जो सब बातों का परिणाम साच लेता है, पंडित, भालू, गिद्ध; -दृष्टि-(पुं.) वह जो दूर तक की बात सोचता हो, पण्डित; -द्रुम-(स्त्री.) सेमल का वृक्ष; -नाद-(पुं.) शंख, तीव्र स्वर; -नाल-(पुं.) ज्वार, गोंदला घास; -नास-(वि.) जिसकी नाक लंबी हो; -निःश्वास-(पुं.) लंबी सांस जो दुःख या शोक के आवेग में ली जाती है; -निद्रा-(स्त्री.) बहुत देर तक रहनेवाली नींद, मृत्यु; -निस्वन-(पुं.) शंख; -पक्ष-(पुं.) फालिग पक्षी; (वि.) जिसके डैने लंबे हों; -पत्र-(पुं.) लाल प्याज, एक प्रकार का कुश, एक प्रकार की उख; -पत्रक, -पत्रिक-(पुं.) लहसुन, रेंडी, बेंत का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष, समुद्रफल; -पत्रा-(पुं.) सरिवन, केतकी, मजीठ; -पत्रिका-(स्त्री.) सफेद वच, धीकु-आर, पुनर्नवा, शालपर्णी, सरिवन; -पत्री-(पुं.) खिरनी का पेड़; -पर्ण-(वि.) जिसके पत्ते लंबे हों; -पर्णी-(स्त्री.) पिठवन का पेड़; -पल्लव-(पुं.) सन का पौधा, लंबा पत्ता; -पाद-(पुं.) सारस पक्षी, ताड़ का वृक्ष; सुपारी का वृक्ष; (वि.) लंबी टाँगों-वाला, -पृष्ठ-(पुं.) सर्प, साँप; -दीर्घप्रज्ञ-(वि.) दूरदर्शी; -फल-(पुं.) अमलतास; -फलक-(पुं.) अगस्त्य का वृक्ष; -फला-(स्त्री.) अंगूर की लता; -फलिका-(स्त्री.) मेंढा सेंगी की लता, तीता कद्दू, की अंगूर की लता; -चाहु-(पुं.) शिव के एक अनुचर का नाम धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम; (वि.) जिसकी भुजा लम्बी हो; -भुज-(पुं.) देखें 'दीर्घबाहु'; -मारुत-(पुं.) हस्ती, हाथी; -मुख-(पुं.) एक वृक्ष का नाम;

(वि.) जिसका मुख लम्बा हो; -मल-(पुं.) एक प्रकार की लता, जवासा, बेल का वृक्ष; -मूल, -मूलक (पुं.) बड़ी मूली या मुरई; -मूला-(स्त्री.) शालपर्णी, सरिवन; -मूलिका-(स्त्री.) जवासा, येवासक; -मूलो-(सं. स्त्री.) देखें 'दीर्घमूलिका'; -यज्ञ-(वि.) जिसने बहुत काल तक यज्ञ किया हो; -रंगा-(स्त्री.) हरिद्रा, हलदी; -रत-(पुं.) कुक्कुर, कुत्ता; -रद-(पुं.) शूकर, सूअर; (वि.) जिसके दाँत लम्बे हों; -रसन-(पुं.) सर्प, साँप; -रागा-(स्त्री.) हरिद्रा, हलदी; -रात्र-(पुं.) अधिक समय, चिरकाल; -राव-(वि.) तेजस्वर से चिल्लानेवाला; -रोगी-(वि.) बहुत दिनों का रोगी; -रोम-(पुं.) भालू; (वि.) बड़े-बड़े वालोंवाला; -लोचन-(वि.) बड़ी-बड़ी आँखों-वाला; (पुं.) शिव के एक अनुचर का नाम, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम, लम्बी आँख; -वंश-(पुं.) नरकट, बड़ा कुल; (वि.) जो प्राचीन वंश से उत्पन्न हो; -वक्त्र-(पुं.) हस्ती, हाथी; (वि.) लंबा मुखवाला; -वच्छिका-(स्त्री.) कुम्भीर, घड़ियाल; -वल्ली-(स्त्री.) महेन्द्र-वारुणी लता; -वृक्ष-(पुं.) साखू का पेड़, ताड़ का पेड़; -वृत्त-(पुं.) लता वृक्ष, सोनापाठा; -शर-(पुं.) जुआर, जोंघरी; -शाख-(पुं.) साल का वृक्ष; -शूक-(पुं.) एक प्रकार का धान; -श्मश्रु-(वि.) बड़ी दाढ़ीवाला; -श्रवा-(पुं.) दीर्घ-तमा ऋषि के एक पुत्र का नाम, लंबा कान; -श्रुत-(वि.) जो दूर तक सुनाई पड़े, जिसका नाम दूर तक प्रसिद्ध हो; -सत्र-(पुं.) यज्ञ जो बहुत दिनों में समाप्त हो; -सूत्र-(वि.) देख 'दीर्घसूत्री'; दीर्घ-सूत्रता-(स्त्री.) प्रत्येक कर्म में विलंब करने का अभ्यास; -सूत्री-(वि.) विलंब करनेवाला; -स्वर-(पुं.) वह स्वर जिसमें दो मात्राएँ हों। दीर्घाकार-(सं. वि.) बड़े आकारवाला। दीर्घाकृति-(सं. वि.) देखें 'दीर्घाकार'। दीर्घायु-(सं. वि.) बहुत दिनों तक जीने-वाला, दीर्घजीवी। दीर्घारण्य-(सं. पुं.) निविड़ वन, घना जंगल।

दीर्घालोक-(सं. पुं.) सफेद मंदार का वृक्ष। दीर्घस्थ-(सं. पुं.) शिव के एक अनुचर का नाम, हाथी, पश्चिमोत्तर प्रदेश; (वि.) बड़ा मुखवाला। दीर्घाह्न-(सं. पुं.) ग्रीष्म काल। दीर्घका-(सं. स्त्री.) छोटा तालाब, बावली। दीर्घोच्चारण-(सं. पुं.) गुरु या दीर्घ उच्चारण। दीवट-(हिं. स्त्री.) दीय; रखने का वातु या लकड़ी का बना हुआ आधार। दीवान-(फा. पुं.) राजा, बादशाह, नवाब आदि का सभा-भवन, मंत्री, प्रधानमन्त्री, वजीर; -आम-(पुं.) बादशाह, राजा आदि का वह दीवान जो सर्वसाधारण के लिए खुला हो; -खास-(पुं.) वह दीवान जिसमें विशिष्ट लोग ही प्रवेश पा सकें। दीवानगी-(हिं. स्त्री.) देखें 'दीवानापन'। दीवाना-(फा. वि.) विक्रिप्त, पागल, सनकी; -पन-(पुं.) पागलपन, सनक। दीवानी-(फा. स्त्री.) वह अदालत या कचहरी जिसमें घन-संबंधी या आर्थिक विवादों का निर्णय होता है। दीवार-(हिं. स्त्री.) मिट्टी, ईंट आदि का बना हुआ घेर, भीत। दीवाल-(हिं. स्त्री.) देखें 'दीवार'। दीवाला-(हिं. पुं.) देख 'दिवाला'। दीवाली-(हिं. स्त्री.) एक उत्सव जो कार्तिक की अमावस्या के दिन होता है जिसमें सन्ध्या के समय घर में तथा घर के बाहर जलते हुए दीपकों की पंक्तियाँ रखी जाती हैं तथा लक्ष्मी का पूजन होता है, इस दिन रात्रि में लोग जुआ खेलते हैं। दीवि-(सं. पुं.) नीलकण्ठ नामक पक्षी। दीसना-(हिं. क्रि. अ.) दृष्टिगोचर होना, दिखाई पड़ना। दीह-(हिं. वि.) दीर्घ, लंबा, बड़ा। दुंका-(हिं. पुं.) छोटा कण, दाना। दुंगरी-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का मोटा वस्त्र। दुंद-(हिं. पुं.) युग्म, जोड़ा, दो मनुष्यों में होनेवाला युद्ध या झगड़ा, उत्पात, ऊयम, उपद्रव, दुन्दुभी, नगाड़ा। दुंदुभि-(सं. स्त्री.) नगाड़ा, डंका, घोंसा। दुंदुभी-(हिं. स्त्री.) देखें 'दुंदुभि'। दुंवा-(हिं. पुं.) एक प्रकार का मेड़ा। दुःख-(सं. पुं.) संकट, व्याधि, रोग, व्यथा, कष्ट, पीड़ा, मानसिक क्लेश, खेद; (मुहा.) -उठाना या भोगना-कष्ट सहना; -पहूँचाना-कष्ट देना; -बँटाना-महानुमति प्रकट करना; -भुगतना-

संकट के दिन विताना;—कर—(सं.) कष्ट पहुँचानेवाला;—कोद्वेषा—(स्त्री.) एक प्रकार का मसूर;—ग्राम—(पुं.) दुःखपूर्ण ससार, दुःखों का समुदाय;—जात—(वि.) दुःख से उत्पन्न, दुःखमय;—जोदी—(वि.) कष्ट से जीवन वितानेवाला;—ता—(स्त्री.) दुःख का भाव, दुःखत्व;—त्रय—(पुं.) आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक—ये तीन प्रकार के दुःख;—द—(वि.) दुःखदायी, क्लेश पहुँचानेवाला;—दग्ध—(वि.) कष्ट में पड़ा हुआ;—दर्शन—(पुं.) गृध्र, गिद्ध;—दाता—(पुं.) क्लेश पहुँचानेवाला व्यक्ति;—दायक, —दायी—(वि.) क्लेश देनेवाला;—दीह्या—(स्त्री.) वह गाय जो कठिनता से दुही जा सके;—निवह—(वि.) अत्यन्त कष्टकारक;—प्रद—(वि.) कष्ट देनेवाला;—बहुल—(वि.) क्लेश से भरा हुआ;—भाग—(वि.) दुःख भोगनेवाला, —भाषित—(वि.) कष्ट से व्यक्त किया हुआ;—भोग—(पुं.) कष्ट या दुःख सहना;—मय—(वि.) क्लेश से भरा हुआ;—लक्ष्य—(वि.) दुःसाध्य, जो कठिनता से मिल सके;—लोक—(पुं.) वह लोक जहाँ दुःख भोगना पड़े, यह ससार;—वर्धन—(पुं.) कान की जड़ में होनेवाला एक रोग;—शील—(वि.) जो सर्वदा दुःख भोगता हो;—संचार—(पुं.) कष्ट से समय विताना;—सागर—(पुं.) दुःख का समुद्र, अत्यधिक क्लेश, ब्रह्म दुःख;—साध्य—(वि.) दुःख से होने योग्य, जिसका करना कठिन हो;—हरा—(स्त्री.) दुःख का नाश करनेवाली दुर्गा ।
दुःखांत—(सं. पुं.) दुःख का अन्त, क्लेश की समाप्ति; (वि.) (नाटक आदि) जिसके अन्त में दुःख का वर्णन हो ।
दुःखाकर—(सं. पुं.) दुःख की खान रूपी संसार; (वि.) कष्ट पहुँचानेवाला ।
दुःखाचार—(सं. वि.) दुःस्वभाव, दुःशासन ।
दुःखान्वित—(सं. वि.) दुःखयुक्त, जिसको कष्ट हो ।
दुःखायतन—(सं. पुं.) कष्टमय संसार ।
दुःखार्त—(सं. वि.) दुःखपीड़ित, कष्ट से व्याकुल ।
दुःखित—(सं. वि.) जिसको दुःख हो ।
दुःखिनी—(सं. वि. स्त्री.) जो दुखिया हो ।
दुःखी—(सं. वि.) क्लेशित, पीड़ित, जो क्लेश में हो ।
दुःशकुन—(सं. पुं.) बुरा शकुन ।

दुःशला—(सं. स्त्री.) राजा घृतराष्ट्र की एक मात्र कन्या जो गान्धारी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और जयद्रथ से व्याही थी ।
दुःशासन—(सं. वि.) जिस पर शासन करना कठिन हो, जो किसी की बात को न माने; (पुं.) घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक का नाम जो गान्धारी के गर्भ से उत्पन्न थे, (वह दुर्योधन के मन्त्री थे। कौरव-पाण्डवों में युद्ध के वेही कारण थे। उनका स्वभाव बड़ा क्रूर था। जब पाण्डव सब कुछ जुए में हार गये तब उन्होंने द्रौपदी को सभा में लाकर उसके वस्त्र खींचकर उसे नग्न करने की चेष्टा की थी ।)
दुःशील—(सं. वि.) दुष्ट शीलवाला, बुरे स्वभाव का;—ता—(स्त्री.) दुष्टता, अविनय ।
दुःशोध—(सं. वि.) जिसका शोधन या सुधार कठिनता से हो ।
दुःश्रव—(सं. वि.) जिसके सुनने से दुःख उत्पन्न हो; (पुं.) दुःश्रव या कर्कश शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न काव्य का एक दोष ।
दुःसंकल्प—(सं. पुं.) दुष्ट विचार ।
दुःसंग—(सं. पुं.) कुसंग ।
दुःसंधान—(सं. पुं.) काव्य का एक रस जिसमें एक तो मेल की बात कहता है और दूसरा विगाड़ की ।
दुःसह—(सं. वि.) दुःख द्वारा सहनीय, जिसका सहना कठिन हो; (पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।
दुःसहा—(सं. स्त्री.) नागदमनी नामक लता ।
दुःसाध—(हिं. वि.) देखें 'दुःसाध्य' ।
दुःसाध्य—(सं. वि.) जिसका सहन करना कठिन हो, जिसका उपाय कठिन हो ।
दुःसाधी—(सं. वि.) दुष्ट साधक; (पुं.) द्वारपाल ।
दुःसाहस—(सं. पुं.) अनुचित साहस ।
दुःसाहसिक—(सं. वि.) जिसके लिए साहस करना बुरा हो ।
दुःसाहसी—(सं. वि.) व्यर्थका साहस करनेवाला ।
दुःसुप्त—(सं. वि.) बुरे सपने से युक्त ।
दुःस्त्री—(सं. स्त्री.) दुष्ट स्त्री ।
दुःस्थ—(सं. वि.) जिसकी स्थिति बुरी हो, मूर्ख, लोभी, दरिद्र ।
दुःस्थित—(सं. वि.) दुःख में पड़ा हुआ, दरिद्र ।
दुःस्थिति—(सं. स्त्री.) दुर्दशा, बुरी अवस्था ।
दुःस्पर्श—(सं. वि.) जिसका छूना कठिन हो; (स्त्री.) केषाच, भटकटैया ।
दुःस्फोट—(सं. पुं.) एक प्राचीन शस्त्र ।
दुःस्वप्न—(सं. पुं.) अशुभसूचक स्वप्न, ऐसा सपना जिसका फल बुरा माना जाता हो ।

दुःस्वभाव—(सं. पुं.) दुःशीलता, बुरा स्वभाव; (वि.) बुरे स्वभाव का, नीच ।
दु—(हिं. वि.) दो शब्द का छोटा रूप जो समस्त-पदों के पहिले जोड़ा जाता है ।
दुअत्री—(हिं. स्त्री.) दो आने का सिक्का या वजन ।
दुआ—(हिं. पुं.) एक प्रकार का गले में पहिनने का आभूषण ।
दुआ—(अ. स्त्री.) ईश्वर से माँगना, प्रार्थना, आशीर्वाद; (मुहा.)—लगना—किसी का आशीर्वाद सफल होना ।
दुआदस—(हिं. वि.) देखें 'द्वादश' ।
दुआर—(हिं. पुं.) द्वार ।
दुआरी—(हिं. स्त्री.) छोटा दरवाजा ।
दुआला—(हिं. पुं.) छोट छापने का लकड़ी का बेलन ।
दुआली—(हिं. स्त्री.) वह आरा जिसको दो आदमी चलाते हैं ।
दुइ—(हिं. वि.) दो संख्या का, दो ।
दुइज—(हिं. स्त्री.) द्वितीया, किसी पक्ष की दूसरी तिथि; (मुहा.)—का चाँद—द्वितीया का चन्द्रमा, थोड़ी देर तक रहनेवाली वस्तु ।
दुऊ—(हिं. वि.) दोनों ।
दुकड़हा—(हिं. वि.) जिसका दाम दो दमड़ी हो, दुकड़ गदा, तुच्छ, नीच ।
दुकड़ा—(हिं. पुं.) एक में लगी हुई दो वस्तुएँ एक पैसे का चौथा अंश, छदाम; (वि.) जिसमें दो वस्तुएँ साथ साथ लगी हों, जोड़ा ।
दुकड़ी—(हिं. वि.) जिसमें किसी वस्तु का जोड़ा हो; (स्त्री.) वह ताश का पत्ता जिसमें दो बूटियाँ हों, चारपाई की वह बुनावट जिसमें दो-दो बाघ एक साथ बिते जाते हों, दो घोड़ों की गाड़ी, दो कड़ियों की लगाम ।
दुकना—(हिं. क्रि. अ.) छिपना ।
दुकान—(फा. स्त्री.) सौदा बेचने और खरीदने का स्थान ।
दुकानदार—(फा. पुं.) दुकान का मालिक या स्वामी ।
दुकानदारी—(फा. स्त्री.) दुकानदार का पेशा ।
दुकाल—(हिं. पुं.) दुष्काल, अकाल, वह समय जब अन्न कठिनता से प्राप्त हो, दुर्मिथ ।
दुकुल्ली—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का चमड़ा मढ़ा हुआ प्राचीन बाजा ।
दुकूल—(सं. पुं.) सन या पाद के रेशों का बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, कपड़ा ।
दुकैला—(हिं. वि.) जो अकेला न हो, जिसके साथ और भी एक साथी हो; अकेला-दुकैला—जो अकेला हो अथवा

जिसके साथ एक या दो आदमी हों।
 दुकले—(हि. अव्य.) दूसरे व्यक्ति को साथ लिये हुए।
 दुक्कड़—(हि. पुं.) एक प्रकार का बाजा जो तबले की तरह का होता है और शहनाई के साथ बजाया जाता है, दो नावों की जोड़ी जो एक में एक जुटी होती है।
 दुक्का—(हि. वि.) जो अकेला न हो, जिसके साथ और भी कोई मनुष्य हो, जो एक साथ दो हो, जोड़ा; (पुं.) देखें 'दुक्की'; दुक्का-तिक्का—दो या तीन के संग में; इक्का-दुक्का—अकेला अथवा जिसके साथ और एक व्यक्ति हो।
 दुक्की—(हि. स्त्री.) ताश का पत्ता जिसमें दो बूटियाँ हों।
 दुखंडा—(हि. वि.) दो-तल्ला, जिस (मकान) में दो खण्ड हों।
 दुख—(हि. पुं.) देखें 'दुःख'।
 दुखड़ा—(हि. पुं.) दुःख का वृत्तान्त, दुःख की कथा, विपत्ति का वर्णन, कष्ट; (मुहा.)—रौना-अपने दुःख की स्थिति किसी से कहना।
 दुखदाई—(हि. वि.) दुःखदाई, कष्ट देनेवाला।
 दुखदुंद—(हि. पुं.) दुःख का उपद्रव।
 दुखना—(हि. क्रि. अ.) पीड़ायुक्त होना, दर्द या पीड़ा होना।
 दुखरा—(हि. पुं.) देखें 'दुखड़ा'।
 दुखचना—(हि. क्रि. स.) देखें 'दुखाना'।
 दुखहाय—(हि. वि.) देखें 'दुःखित', दुखी।
 दुखाना—(हि. क्रि. स.) कष्ट पहुँचाना, पीड़ा देना, व्यथित करना, पके घाव इत्यादि को स्पर्श करना जिससे पीड़ा हो; (मुहा.) जी दुखाना—मानसिक कष्ट देना।
 दुखारा, दुखारी—(हि. वि.) दुःख-पीड़ित।
 दुखित—(हि. वि.) देखें 'दुःखित', पीड़ित।
 दुखिया—(हि. वि. पुं.) (वह) जिसको किसी प्रकार का कष्ट या दुःख हो, दुःखी, पीड़ित।
 दुखियारा—(हि. वि. पुं.) (वह) जिसको किसी बात का दुःख हो, दुखिया, जिसको कोई शारीरिक कष्ट हो, रोगी।
 दुखी—(हि. वि.) जिसको कोई कष्ट या दुःख हो, जिसको किसी प्रकार का मानसिक कष्ट हुआ हो, जिसके मन में क्लेश हो, रोगग्रस्त, रोगी।
 दुखीला—(हि. वि.) दुःखपूर्ण, जो दुःख भोगता हो।
 दुखीहां—(हि. वि.) दुःखदायी, कष्ट देनेवाला।

दुगई—(हि. स्त्री.) ओसारा।
 दुगड़ा—(हि. पुं.) दुनाली बन्दूक, दोहरी गोली।
 दुगडुगी—(हि. स्त्री.) गरदन के नीचे और छाती के ऊपर का गहरा भाग, घूकघुकी, गले में पहिनने का एक गहना जो छाती के ऊपर लटकता रहता है।
 दुगना—(हि. वि.) द्विगुण, दूना।
 दुगुण—(हि. वि.) देखें 'द्विगुण', दूना।
 दुगुन—(हि. वि.) देखें 'द्विगुण', द्विगुण, दूना।
 दुग्ग—(हि. पुं.) देखें 'दुग्'।
 दुग्घ—(सं. पुं.) स्त्री जाति के स्तनों से निकलनेवाला सफेद तरल द्रव जिससे उनके बच्चों का शैशवावस्था में पालन-पोषण होता है; (वि.) भरा हुआ, दुहा हुआ; -कूपिका—(स्त्री.) एक प्रकार का पकवान; -सालीघ—(पुं.) दूध का फन, मलाई; -तुंबी—(हि. स्त्री.) सफेद कदू; -त्रय—(पुं.) गाय, भैंस और बकरी का दूध; -दा—(वि. स्त्री.) दूध देनेवाली; (स्त्री.) एक प्रकार की घास; -परिभाषक-यंत्र—(पुं.) वह यंत्र जिससे दूध में मिलाय हुए पानी का पता चलता है; -पाचन—(पुं.) दूध गरम करने का पात्र; -पाषाण—(पुं.) एक प्रकार का वृक्ष; -योष्य—(वि.) जो केवल दूध पिलाकर पाला जाता हो; (पुं.) शिशु, बच्चा; -फेन—(पुं.) दूध का फेन; -फेनी—(स्त्री.) एक प्रकार का छोटा पौधा; -बंधन—(पुं.) दूध दूहने के लिये गाय को बाँधना; -बीजा—(स्त्री.) ज्वार, जोंघरी; -समुद्र—(पुं.) देखें 'क्षीरसमुद्र'।
 दुग्घाद्धि—(सं. पुं.) क्षीरसागर।
 दुग्घाक्ष—(सं. पुं.) एक प्रकार का सफेद रत्न।
 दुग्घाघ्न—(सं. पुं.) दूध पर की मलाई।
 दुग्घात्वि—(सं. पुं.) क्षीरसागर, दुग्घ समुद्र।
 दुग्घाव्यतनया—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी।
 दुग्घाश्मन्—(सं. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष।
 दुग्घि, दुग्घी—(सं. स्त्री.) दुद्धी नाम की घास; (वि.) दूधवाला, जिसमें दूध हो।
 दुग्घिका—(सं. स्त्री.) दुद्धी नामक घान, खिरनी।
 दुग्घिनिका—(सं. स्त्री.) लाल अपामार्ग, चिचड़ा।
 दुघ—(सं. वि.) जो दूहता हो, दूहनेवाला।
 दुघड़िया—(हि. वि.) दो घड़ियों का (मूर्त); -मूर्त—(पुं.) दो-दो घड़ियों के अनुसार निकाला हुआ मूर्त जो यात्रा आदि आवश्यकताओं के लिये स्थिर किया जाता है।

दुधरी—(हि. स्त्री.) दुधड़िया मूर्त।
 दुचल्ला—(हि. पुं.) दोनों ओर ढारवाली छत।
 दुचित्त—(हि. वि.) अस्थिर-चित्त, जिसका मन एक बात पर स्थिर न हो।
 दुचिता—(हि. वि.) चिन्तित।
 दुचित्तई, दुचित्तई—(हि. स्त्री.) चित्त की अस्थिरता, आरांका, चिन्ता, द्विविधा, खटका, शंका।
 दुचित्ता—(हि. वि.) जिसका मन अस्थिर हो, अस्थिरचित्त, चिन्तित, जो खटके में हो, जो सन्देह में हो।
 दुच्छक—(सं. पुं.) कपूरकचरी, तालीसपत्र।
 दुच्छदान—(सं. पुं.) पागल कुत्ता।
 दुज—(हि. पुं.) देखें 'द्विज'।
 दुजड़—(हि. स्त्री.) तलवार, सड्ग।
 दुजड़ी—(हि. स्त्री.) कटार।
 दुजन्मा—(हि. पुं.) देखें 'द्विजन्मा'।
 दुजपति—(हि. पुं.) देखें 'द्विजपति'।
 दुजाति—(हि. पुं.) द्विज।
 दुजानु—(हि. अव्य.) दोनों जाँघों के बल।
 दुजीह—(हि. पुं.) देखें 'द्विजि हूँ', सर्प, साँप।
 दुजेश—(हि. पुं.) देखें 'द्विजेश'।
 दुटुक, दुटुक—(हि. वि.) टाण्डित, दो टुकड़ों में किया हुआ।
 दुडि—(सं. स्त्री.) कच्छपी, कछुई।
 दुत—(सं. वि.) पीड़ित, जिसको कष्ट हो; (हि. अव्य.) तिरस्कारसूचक शब्द जो किसी को हटाने के लिये प्रयुक्त होता है, घृणासूचक शब्द।
 दुतकार—(हि. स्त्री.) धक्कार, तिरस्कार, फटकार।
 दुतकारना—(हि. क्रि. स.) तिरस्कार करना, धक्कारना, दुत-दुत करके अपने पास से किसी को हटाना।
 दुतारा—(हि. पुं.) दो तार लगा हुआ एक प्रकार का बाजा जो अँगुली से बजाया जाता है।
 दुति—(हि. स्त्री.) द्युति, आभा, चमक।
 दुतिमान—(हि. वि.) देखें 'द्युतिमान'।
 दुतिय—(हि. वि.) देखें 'द्वितीय', दूसरा।
 दुतिया—(हि. स्त्री.) द्वितीया, पक्ष की दूसरी तिथि, दूज।
 दुतिवंत—(हि. वि.) द्युतिमान, चमकीला, आभायुक्त, सुन्दर, मनोहर।
 दुथरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की मछली।
 दुवल—(हि. वि.) द्विदल, जिसके टटने पर दो बराबर टुकड़ हो जायें; (पुं.) दाल।
 दुदलाना—(हि. क्रि. स.) दुतकारना।
 दुदहँड़ी—(हि. स्त्री.) दूध रखने का मिट्टी का पात्र।

दुदामी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का सूती कपड़ा ।
 दुदिला—(हि. वि.) जो दुबवे में पड़ा हो, दुचित्ता, व्यग्र, घबड़ाया हुआ ।
 दुद्धी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास जो भूमि पर दूर तक फैलती है, खड़िया मिट्टी, सफेद मिट्टी, सारिवा लता, जंगली नील ।
 दुद्धम—(सं. पुं.) हरा प्याज ।
 दुधपिठवा—(हि. पुं.) एक प्रकारका पकवान ।
 दुधमुख—(हि. वि.) दूध पीता हुआ, दुधमुँह ।
 दुधमुँहा—(हि. वि.) देखें 'दुधमुत्र' ।
 दुधहँडी, दुधहँडी—(हि. स्त्री.) दूध रखने या गरम करने का मिट्टी का छोटा पात्र ।
 दुधौड़ी—(हि. स्त्री.) देखें 'दुधहँडी' ।
 दुधार—(हि. वि., स्त्री.) दूध देनेवाली; (वि., पुं.) जिसमें दूध हो ।
 दुधारा—(हि. वि.) जिसमें दोनों ओर धार हो; (पुं.) एक प्रकार की चौड़ी तलवार, खांडा ।
 दुधारी—(हि. वि. स्त्री.) दूध देनेवाली, जो दूध देती हो, जिसमें दोनों ओर धार हो; (स्त्री.) एक प्रकार की कटार ।
 दुधारू—(हि. वि.) देखें 'दुधार' ।
 दुधिया—(हि. वि.) दूध मिला हुआ, जिसमें से दूध निकलता है, सफेद रंग का, दूध की तरह सफेद; (स्त्री.) दुद्धी नाम की घास, एक प्रकार की पशुओं को खिलाने की चरी, खड़िया मिट्टी, एक प्रकार का विप; -कंजई—(पुं.) एक प्रकार का रंग; -पत्थर—(पुं.) एक प्रकार का कोमल पत्थर जिसकी कटोरी आदि बनती है, एक प्रकार का रत्न; -विष—(पुं.) कलियारी जाति का एक स्थावर विप ।
 दुधली—(हि. स्त्री.) देखें 'दुद्धी' ।
 दुधल—(हि. वि. स्त्री.) जो बहुत दूध देती हो ।
 दुध्र—(सं. वि.) हिंसक, मारनेवाला, प्रेरक, प्रबल, जिसको दवाना कठिन हो; -कृत—(वि.) बुरा काम करनेवाला ।
 दुनस्ना, दुनवना—(हि. क्रि. अ.) लचककर दोहरा हो जाना ।
 दुनाली—(हि. वि.) जिसमें दो नालियाँ लगी हों; (स्त्री.) दुनाली बंदूक जिसमें एक साथ दो गोलीयाँ भरी जा सकें ।
 दुनिया—(अ. स्त्री.) जगत् संसार, संसार का प्रपंच, झंझट आदि, संसार के लोग, लोक दुनियाई—(हि. वि.) सांसारिक ।
 दुनियादार—(फा. पुं.) संसार के जीवन-संग्राम में लगा हुआ व्यक्ति, गृहस्थ ।

दुनियादारी—(फा. स्त्री.) दुनिया का कर्तव्य, धर्म, आचरण आदि, गृहस्थी, स्वार्थसाधन ।
 दुनियासाज—(फा. वि.) स्वार्थसाधक, अपना मतलब चापलूसी आदि के द्वारा निकालनेवाला ।
 दुनी—(हि. स्त्री.) संसार, दुनिया ।
 दुपटा, दुपट्टा—(हि. पुं.) दो पाटों की चद्दर, वह लम्बा वस्त्र जो कन्धों पर से नीचे ओढ़ा जाता है; (मुहा.)—तानकर सोना—निश्चिन्त होकर निद्रा लेना ।
 दुपट्टी—(हि. स्त्री.) छोटा दुपट्टा ।
 दुपद—(हि. पुं.) देखें 'द्विपद' ।
 दुपदी—(हि. स्त्री.) मिरजई ।
 दुपलिया—(हि. वि.) दो पल्लोंवाली ।
 दुपहर, दुपहरी—(हि. पुं. स्त्री.) देखें 'दोपहर' ।
 दुपहरिया—(हि. स्त्री.) मध्याह्न, दोपहर, एक प्रकार का पौधा जिसमें सुन्दर फूल लगते हैं ।
 दुफसली—(हि. वि.) दोनों फसलों में (अर्थात् रबी और खरीफ दोनों में) उत्पन्न होनेवाला; (वि.) सन्दिग्ध, अनिश्चित ।
 दुदगली—(हि. स्त्री.) मलखम्म का एक व्यायाम ।
 दुवड़ा—(हि. पुं.) एक प्रकार की चौपायों के खाने की घास ।
 दुवधा—(हि. स्त्री.) चित्त की अस्थिरता, अनिश्चय, आगा-पीछा, असमंजस, त्रिन्ता, संशय, सन्देह, खटका ।
 दुवरा—(हि. वि.) देखें 'दुबला' ।
 दुवराना—(हि. क्रि. अ.) दुर्बल होना दुबला होना ।
 दुबला—(हि. वि.) दुर्बल, कृश, क्षीण शरीर का, अशक्त; -पन—(पुं.) दुर्बलता, कृशता ।
 दुवाइन—(हि. स्त्री.) दूबे की स्त्री ।
 दुवागा—(हि. पुं.) सन की मोटी डोरी ।
 दुवारा—(हि. अव्य.) देखें 'दोवारा' ।
 दुवाहिया—(हि. वि.) वह योद्धा जो दोनों हाथों से तलवार चलाता हो ।
 दुविद—(हि. पुं.) देखें 'द्विविध' ।
 दुविध, दुविधा—(हि. स्त्री.) देखें 'दुवधा' ।
 दुभाखी—(हि. पुं.) देखें 'द्विभाषी' ।
 दुभाषिया, दुभाषी—(हि. पुं.) वह जो दो भाषाओं को जानता हो, वह जो बातचीत करनेवाले दो मनुष्यों की मित्त भाषाओं को जानता है और एक का अभिप्राय दूसरे को उसी वक्त वता देता है ।
 दुमंजिला—(फा. वि.) दो-खंडों या मंजिलों वाला (मकान) ।
 दुम—(फा. स्त्री.) पूँछ, पुच्छ; (मुहा.)

-दवाकर भागना—डरके मारे भाग जाना ।
 दुमची—(फा. स्त्री.) धोड़े के साज में दुम के नीचे रहनेवाला पट्टा ।
 दुमदार—(फा. वि.) जिसके पूँछ हो, पूँछवाला ।
 दुमन—(हि. पुं.) अप्रसन्न, खिन्न ।
 दुमाता—(हि. वि.) सौतेली माता, बुरी माँ ।
 दुमाला—(हि. पुं.) पाश, फन्दा ।
 दुमुँहा—(हि. वि.) दो मुखवाला ।
 दुर्गा—(हि. वि.) जिसमें दो रंग हों, दो रंगों का, दो तरह का, दो पक्षों का अवलम्बन करनेवाला ।
 दुर्गी—(हि. स्त्री.) द्विविधा, कभी एक पक्ष का और कभी दूसरे पक्ष का अवलम्बन; (वि., स्त्री.) दुर्गा ।
 दुर्त—(सं. वि.) जो पहिले अच्छा जान पड़े परन्तु जिसका अन्त बुरा हो, (सभी व्यसन दुर्त होते हैं), दुर्द ।
 दुर्तक—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 दुर्द—(हि. वि.) अपार, दुर्गम कठिन, भारी, अशुभ, बुरे परिणामवाला, दुस्तर, दुष्ट ।
 दुर्धा—(हि. वि.) दो छेदाँवाला, जिसमें आर-पार छिद्र हो ।
 दुर—(हि. अव्य.) तिरस्कारपूर्वक हटाने के लिये इस शब्द का व्यवहार होता है, इसका अर्थ है 'दूर हो'; (मुहा.)—दुर करना—दुरदुराना, तिरस्कारपूर्वक हटाना ।
 दुरक्ष—(सं. पुं.) पासा, चौपड़, बुरी दृष्टि ।
 दुरजन—(हि. वि.) देखें 'दुर्जन', दुष्ट ।
 दुरजोधन—(हि. पुं.) देखें 'दुर्जोधन' ।
 दुरतिक्रम—(सं. वि.) अलंघनीय, जिसका अतिक्रमण न हो सके, अपार, प्रबल, जिसको कोई जीत न सके; (पुं.) विष्णु ।
 दुरत्यय—(सं. वि.) दुस्तर, जिसका पार पाना कठिन हो ।
 दुरद—(हि. पुं.) देखें 'द्विरद' ।
 दुरदाम—(हि. वि.) कष्ट-साध्य ।
 दुरवाल—(हि. पुं.) द्विरद, हस्ती, हाथी ।
 दुरदिन—(हि. पुं.) देखें 'दुर्दिन' ।
 दुरदुराना—(हि. क्रि. स.) तिरस्कारपूर्वक हटाना या दूर करना, भगा देना ।
 दुरदृष्ट—(सं. पुं.) अदृष्ट, दुर्भाग्य, अभाग्य ।
 दुरद्यान—(सं. स्त्री.) बुरा भोजन ।
 दुरधिग, दुरधिगम (म्य)—(सं. वि.) कठिनता से मिलने योग्य, जिसका जानना कठिन हो ।
 दुरधिष्ठित—(सं. वि.) जो धीरे-धीरे किया जाय ।
 दुरधीत—(सं. वि.) जो ठीक तरह से अध्ययन न किया हुआ हो, जो पढ़ा गया हो परन्तु जिसका मर्म न समझा गया हो ।

दुरध्यय—(सं.वि.)अध्ययन करने में अशक्य।
 दुरध्यवसाय—(सं. पूं.) बुरा काम करने की चेष्टा।
 दुरध्व—(सं. पूं.) कुपथ, कुमार्ग।
 दुरना—(हिं. क्रि.अ.) आँखों के सामने से हटना, आड़ में होना, दिखलाई न पड़ना, छिप जाना।
 दुरनुपालन—(सं. वि.) जिसका पालन करना कठिन हो।
 दुरनुबोध—(सं. वि.) जिसका याद करना कठिन हो।
 दुरनुष्ठित—(सं. वि.) जो दुःख से किया जाय।
 दुरनुष्ठेय—(सं. वि.) जिसका करना कठिन हो, दुर्गम, कठिन।
 दुरन्वय—(सं. वि.) जो कठिनता से अन्वय किया जाय।
 दुरन्वेष्य—(सं. वि.) जिसका अनुसन्धान कष्ट से हो सके।
 दुरपचार—(सं.वि.) जो विरक्त नहीं किया जा सकता हो, जिसका हटाना कठिन हो।
 दुरपदी—(हिं. स्त्री.) देखें 'द्रौपदी'।
 दुरवार—(हिं. वि.) अटल।
 दुरवास—(हिं. पूं.) दुर्गन्ध, बुरी महक।
 दुरवीन—(हिं. पूं.) देखें 'दूरवीन'।
 दुरभिग्रह—(सं. पूं.) अपाभाग, चिचड़ा, जवासा, कैंवाच; (वि.) जो कठिनता से प्राप्त हो।
 दुरभिज्ञेय—(सं. वि.) जिसका जानना कठिन हो।
 दुरभिसंधि—(सं. स्त्री.) बुरे अभिप्राय से मिल-जुलकर किया हुआ परामर्श।
 दुरभव—(हिं. पूं.) दुर्भाव, मनोमालिन्य, मनमोटाव।
 दुरमुस—(हिं. पूं.) गदा के आकार का यन्त्र जिससे कंकड़ या मिट्टी पीटकर बँटाई जाती है।
 दुरवगत—(सं. वि.) जो कठिनता से जाना जा सके।
 दुरवगम्य—(सं. वि.) दुर्ज्ञेय, जिसका जानना कठिन हो।
 दुरवग्राह्य—(सं. वि.) जो कठिनता से ग्रहण किया जा सके।
 दुरवबोध—(सं. वि.) दुर्बोध, जो कठिनता से जाना जा सके।
 दुरवरोह—(सं. वि.) जो कठिनता से चढ़ा जा सके।
 दुरववद—(सं. वि.) जिससे सहज में कटु वाक्य न बोला जाय।
 दुरवस्य—(सं. वि.) जो दुर्दशा में हो,

जिसकी दशा अच्छी न हो।
 दुरवस्था—(सं.स्त्री.) बुरी दशा,हीन दशा।
 दुरवाप—(सं. वि.) दुष्प्राप्य, कठिनता से प्राप्त होने योग्य।
 दुरवेक्षित—(सं.पू.) मन्द दृष्टि, बुरी दृष्टि।
 दुरस—(हिं.पू.) सहोदर भ्राता, सगा भाई।
 दुरह्न—(सं. पूं.) दुर्दिन, बुरा दिन।
 दुराउ—(हिं. पूं.) देख 'दुराव'।
 दुराक—(सं.पू.) एक म्लेच्छ जाति का नाम।
 दुराकांक्ष—(सं. वि.) जो बुरे विषयों की आशा करता हो।
 दुराकांक्षा—(सं. स्त्री.) बुरे विषयों की अभिलाषा।
 दुराकृति—(सं. स्त्री.) बुरी आकृति, बुरा स्वरूप।
 दुराक्रन्द—(सं.पूं.) बड़े दुःख से रोना।
 दुराक्रम—(सं. वि.) जिस पर बड़ी कठिनता से आक्रमण किया जाय।
 दुराक्रम्य—(सं. वि.) जिस पर सहज में चढ़ाई न की जा सके।
 दुराक्रोश—(सं. पूं.) दुःख का विलाप।
 दुरागत—(सं.वि.) दुःखित, जो बड़े कष्ट में हो।
 दुरागम—(सं. पूं.) बुरी रीति से प्राप्त करना।
 दुरागमन—(हिं. पूं.) देखें 'द्विरागमन'।
 दुरागौन—(हिं. पूं.) वधू का दूसरी वार ससुराल को जाना, द्विरागमन।
 दुराग्रह—(सं. पूं.) किसी विषय में बुरी तरह से हठ करना, अपने मत के ठीक सिद्ध न होने पर भी हठ करके उस पर अड़ा रहना।
 दुराग्रही—(हिं. वि.) जो उचित-अनुचित का विचार किये बिना अपने मत पर अड़ा रहता है, हठी।
 दुराचरण—(सं. पूं.) खोटा चाल-चलन, बुरा व्यवहार।
 दुराचार—(सं. पूं.) बुरा आचरण, बुरा चाल-चलन।
 दुराचारी—(हिं. वि.) बुरे चाल-चलन का।
 दुराज—(हिं. पूं.) दुष्ट शासन, वह राज्य जिसमें दो राजा शासन करते हों।
 दुराजी—(हिं. वि.) दो राजाओं का, जिसमें दो राजा हों।
 दुराद्वयसम्भव—(सं. पूं.) जो बहुत कष्ट से बुरी अवस्था से अच्छी अवस्था में पहुँचा हो।
 दुरात्मता—(सं. स्त्री.) दुरात्मा का कार्य या भाव।
 दुरात्मा—(सं.वि.) नीच प्रकृति का, खोटा।
 दुरावान—(सं. वि.) जो कष्ट से आदान या धारण किया जाय।
 दुरादुरी—(हिं. पूं.) गोपन, छिपाव;

—करके—(अव्य) गुप्त रूप से, छिपे हुए।
 दुराघन—(सं. पूं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 दुराघर—(सं. पूं.) घृतराष्ट्र का एक पुत्र।
 दुराघर्ष—(सं. पूं.) सफ़द सरसों, विष्णु; (वि.) जिसका दमन करना कठिन हो, अभिमानी, प्रबल; —ता—(स्त्री.) प्रबलता, प्रचण्डता।
 दुराघर्षा—(सं. स्त्री.) कुटुम्बिनी वृक्ष।
 दुराघार—(सं. वि.) जो कठिनता से सहारा पा सके, चिन्तनीय; (पुं.) शिव, महादेव।
 दुराधि—(सं. वि.) क्लेशजनक।
 दुराधी—(सं.वि.) दुष्ट प्रकृति या आचरणका।
 दुरानम—(सं. वि.) जो बड़ी कठिनता से सन्तुष्ट किया जा सके।
 दुराना—(हिं.क्रि.अ.,सं.) दूर होना, हटना, छिपना, हटाना, दूर करना, छोड़ना, छिपाना।
 दुराप—(सं. वि.) दुष्प्राप्य, कठिनता से मिलने योग्य।
 दुरापन—(सं.वि.) देखें 'दुराप', दुष्प्राप्य।
 दुरापदान—(सं. वि.) जो कठिनता से जा सके।
 दुरापूर—(सं. वि.) जो कठिनता से पूरा किया जा सके।
 दुरावाध—(सं. वि.) जो पीड़ा देने योग्य न हो; (पुं.) शिव, महादेव।
 दुरास्नाय—(सं. वि.) जो बड़ी कठिनता से वश में लाया जा सके।
 दुराध्य—(सं. वि.) दुष्प्राप्य, जो कठिनता से प्राप्त हो सके।
 दुरारक्ष्य—(सं. वि.) जो कठिनता से बचाया जा सके।
 दुराराध्य—(सं.वि.) दुःख द्वारा आराधनीय, जिसको सन्तुष्ट करना कठिन हो; (पुं.) विष्णु।
 दुरारुह—(सं. पूं.) वेल क. वृक्ष, नारियल का पेड़।
 दुरारुहा—(सं. स्त्री.) खजूर का पेड़, ताड़ का पेड़, वांस।
 दुरारोह, दुरारोहा—(सं.पुं.,स्त्री.) गिरगिट, ताड़ या खजूर का पेड़; (वि.) जिस पर चढ़ना कठिन हो।
 दुरालम्भ—(सं. वि.) जो कठिनता से मिले।
 दुरालम्भ—(सं. वि.) दुर्लभ, जिसका मिलना कठिन हो।
 दुरालम्भा—(सं. स्त्री.) एक कँटीला पीधा, जवासा, हिंगुआ, कपास, रुई का पेड़।
 दुरालम्भ्य—(सं. वि.) जिसका मिलना कठिन हो।
 दुरालाप—(सं.पुं.) कटु वचन, गाली गर्लोज।

दुरालोक—(सं.वि.) बहुत सफेद, (पुं.) चमक।
 दुराव—(हिं. पुं.) किसी से बात गुप्त रखने का भाव, कपट, छल।
 दुरावत—(सं. वि.) जो कठिनता से घुमाया जा सके।
 दुरावह—(सं.वि.) जिसका लाना कठिन हो।
 दुराव्य—(सं. पुं.) दुष्ट मति, बुरा विचार।
 दुराश—(सं.पुं.) जिसको अच्छी आशा न हो।
 दुराशय—(सं. पुं.) दुष्ट विचार; (वि.) जिसका अभिप्राय बुरा हो।
 दुराशा—(सं. स्त्री.) व्यर्थ की आशा।
 दुरास—(सं. वि.) अजय, जिसको कोई जीत न सके।
 दुरासा—(हिं. स्त्री.) देखें 'दुराशा'।
 दुरासद—(सं. वि.) दुष्प्राप्य, जिसका मिलना कठिन हो।
 दुरासन—(सं. पुं.) वह स्थान जो रहने योग्य न हो।
 दुराहर—(सं.वि.) जिसके खाने में कष्ट हो।
 दुराहा—(सं. वि.) अभाग।
 दुरित—(सं. पुं.) पातक, पाप, छोटा पाप; (वि.) पापी; -जय—(पुं) पाप का क्षय, पाप का घटना; -दमनी—(स्त्री.) शमी वृक्ष; (वि.स्त्री.) पाप का नाश करनेवाली।
 दुरितारि—(सं. वि.) पाप का नाश करनेवाली।
 दुरियाना—(हिं.क्रि.सं.) दूर करना, हटाना, तिरस्कार के साथ भगाना, दुरदुराना।
 दुरिष्ट—(सं. पुं.) मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के निमित्त किया जानेवाला यज्ञ, पातक, पाप।
 दुरिष्टि—(सं. स्त्री.) अभिचार के निमित्त किया जानेवाला यज्ञ।
 दुरिष्ट—(सं. वि.) खोटा, निकृष्ट।
 दुरीश—(सं. पुं.) निन्दित प्रभु या स्वामी।
 दुरीशणा—(सं. स्त्री.) शाप, दुराशय।
 दुरक्त—(सं. पुं.) कटु वचन, अपशब्द।
 दुरवित—(सं.स्त्री.) कटु वाक्य, कठोर-वचन।
 दुरुच्चार—(सं. वि.) अदलील, लज्जाजनक, फूहड़।
 दुरुच्चाय—(सं. वि.) जो सहज में उच्चारण न किया जा सके।
 दुरुच्छेद—(सं. वि.) जो कठिनाई से उखाड़ा जा सके।
 दुरुच्छेद्य—(सं. वि.) जो सहज में न उखड़ सके।
 दुरुत्तर—(सं. वि.) दुस्तर, जिसको पार करता कठिन हो, अनुत्तर, जिसका उत्तर देना कठिन हो; (पुं.) बुरा उत्तर या जवाब।
 दुरुत्तोल्य—(सं. वि.) जो कठिनता से

उठाया जा सके।
 दुःखसह—(सं. वि.) दुःसह, न सहन करने योग्य।
 दुःख्य—(सं.वि.) जो अच्छी तरह न दिखाई पड़े, भयंकर।
 दुःखदाहर—(सं. वि.) जिसका उदाहरण सहज में न दिया जा सके।
 दुःखह—(सं. वि.) दुःसह।
 दुःखकर्म—(सं. वि.) दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो।
 दुःखचार—(सं. वि.) बुरा व्यवहार।
 दुःखयोग—(सं. पुं.) अनुपयुक्त व्यवहार, बुरा उपयोग।
 दुःखपक्ष—(सं.वि.) जिसको देखते न बने।
 दुःखसर्पों—(सं.वि.) अकस्मात् आ जानेवाला।
 दुःखस्थान—(सं. वि.) दुष्प्राप्य, जिसका मिलना कठिन हो।
 दुःखाय—(सं. पुं.) बुरा विचार या उपाय।
 दुःखन—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पतले दाने का गेहूँ।
 दुःखस्त—(फा. वि.) जो अच्छी या व्यवहारयोग्य दशा में हो, जो फूटा-टूटा न हो, जो त्रुटिरहित हो, ठीक।
 दुःखस्ती—(फा. स्त्री.) दुःख करने की क्रिया, सुधारना।
 दुःखह—(सं. वि.) जो जल्दी से विचार में न आ सके, गढ़, कठिन, जटिल।
 दुरीक—(सं. वि.) जो स्थान रहने योग्य न हो।
 दुरीदर—(सं. पुं.) पण, दाँव, पासा; (पुं.) जुआ खेलनेवाला।
 दुरीह—(सं. पुं.) नागकेशर का वृक्ष।
 दुरीधा—(हिं. पुं.) द्वार के ऊपर लगाई हुई लकड़ी।
 दुर्—(सं. अव्य.) क्रिया या संज्ञा के साथ लगाने से इस शब्द का अर्थ—दुष्ट, बुरा, निषेध, दुःख, संकट आदि होता है।
 दुर्गंध—(सं. स्त्री.) बुरी गन्ध; (वि.) बुरी गन्ध का; -ता—(स्त्री.) दुर्गन्ध का भाव।
 दुर्गंधी—(सं. वि.) जिसकी गन्ध बुरी हो।
 दुर्ग—(सं. पुं.) कोट, गढ़, एक असुर का नाम जिसका वध करने के कारण देवी का नाम दुर्गा पड़ा।
 दुर्गकर्म—(सं.पुं.) कोट या गढ़ बनाने का काम।
 दुर्गकारक—(सं.पुं.) गढ़ बनानेवाला।
 दुर्गत—(सं. वि.) दुर्दशाग्रस्त, जिसकी अवस्था बुरी हो, दरिद्र; (स्त्री.) देखें

'दुर्गति'; -ता—(स्त्री.) दरिद्रता।
 दुर्गतरणी—(सं. स्त्री.) एक देवी का नाम।
 दुर्गति—(सं. स्त्री.) नरक, बुरी स्थिति या अवस्था, दुर्दशा, कठिन मार्ग; (वि.) दीन; -नाशिनी—(स्त्री.) दुर्गा देवी।
 दुर्गपति—(सं. पुं.) दुर्गरक्षक, वह अधिकारी जिस पर किले की रक्षा का भार सौंपा गया हो।
 दुर्गपाल—(सं.पुं.) दुर्ग का रक्षक, किलेदार।
 दुर्गपुष्पी—(सं.स्त्री.) एक प्रकार का वृक्ष।
 दुर्गम—(सं. वि.) जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्ज्ञेय, जिसका जानना कठिन हो, दुस्तर, विकट; (पुं.) दुर्ग, विष्णु, एक असुर का नाम, वन, जंगल, कठिन अवस्था; -ता—(स्त्री.) दुर्गम होने का भाव।
 दुर्गमनीय—(सं. वि.) जहाँ पर पहुँचना कठिन हो।
 दुर्गरक्षक—(सं. पुं.) गढ़पति, किलेदार।
 दुर्गलंघन—(सं. पुं.) उष्ट्र, ऊँट।
 दुर्गसंचर—(सं. पुं.) गढ़ का मार्ग।
 दुर्गसंस्कार—(सं. पुं.) गढ़ की मरम्मत।
 दुर्गा—(सं. स्त्री.) आदि शक्ति, सृष्टि, स्थिति और लय करनेवाली आद्याशक्ति, (शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेय संहिता में अम्बिका देवी का उल्लेख मिलता है। वहाँ पर यह रुद्र की वहिन कही गई है। सायनाचार्य के मत से वेदोक्त दुर्गा की महापूजा शरत्काल में होती है। अनेक असुरों का वध करने के कारण इनके अनेक नाम हैं), नौ वर्ष की कन्या, श्यामा पक्षी, कौनाठोठी, एक संकर रागिनी का नाम।
 दुर्गाधिकारी, दुर्गाध्यक्ष—(सं.पुं.) दुर्ग का रक्षक।
 दुर्गा-भाहात्म्य—(सं. पुं.) देवी-माहात्म्य, भगवती की महिमा।
 दुर्गावती—(सं. स्त्री.) चित्तौर के राणा सांगा की कन्या का नाम।
 दुर्गाष्टमी—(सं. स्त्री.) आश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी।
 दुर्गुण—(सं. पुं.) बुरा गुण, दोष, बुराई।
 दुर्गेश—(सं. पुं.) दुर्ग का अध्यक्ष।
 दुर्गात्सव—(सं. पुं.) दुर्गापूजन का उत्सव जो आश्विन के नवरात्र में होता है।
 दुर्ग्रह—(सं. वि.) जो कठिनता से पकड़ा जा सके, दुर्ज्ञेय, जो सहज में न समझा जा सके; (पुं.) अपामार्ग, चिचड़ा।
 दुर्ग्रह्य—(सं. वि.) कठिनता से ग्रहण किये जाने योग्य।
 दुर्घट—(सं. वि.) कठिनता से होने योग्य।

दुर्घटना—(सं. स्त्री.) अशुभ घटना, विपत्ति, बुरा संयोग, आपत् ।
 दुर्घोष—(सं.पुं.) मालू, कट्ट वचन; (वि.) जो कर्कश वचन बोले ।
 दुर्जन—(सं. पुं.) दुष्ट मनुष्य, खोटा आदमी; —ता—(स्त्री.) खोटापन, दुष्टता ।
 दुर्जयंत—(सं. पुं.) एक प्राचीन राजा का नाम ।
 दुर्जय—(सं. वि.) जिसको जीतना कठिन हो; (पुं.) विष्णु, एक राक्षस का नाम ।
 दुर्जर—(सं.वि.) जो कठिनता से पच सके ।
 दुर्जाति—(सं. वि.) जिसका जन्म बुरी तरह से हुआ हो, नीच, अभागा; (पुं.) व्यसन, संकट, कठिनता ।
 दुर्जाति—(सं. वि.) निन्दित कुल का, अस्पृश्य या नीच जाति का ।
 दुर्जाव—(सं.वि.) दूसरे के दिष्टे हुए अन्न पर निर्भर रहनेवाला; (पुं.) बुरा जीवन, दूसरे के अधीन जीवन ।
 दुर्जय—(सं. वि.) दुर्जय, जिसको जीतना कठिन हो ।
 दुर्ज्ञेय—(सं. वि.) दुर्बोध, जो सहज में समझ में न आ सके ।
 दुर्णय—(सं. पुं.) बुरी नीति या चाल; (वि.) बुरी चालवाला ।
 दुर्णेश—(सं.वि.) जो कठिनाई से न हो सके ।
 दुर्णोत—(सं. पुं.) देखें 'दुर्नीति' ।
 दुर्दम—(सं. वि.) जो सहज म न जीता जा सके, प्रचण्ड; (पुं.) वसुदेव के एक पुत्र का नाम जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न थे ।
 दुर्दमन—(सं. पुं.) राजा जनमेजय के वंश के एक राजा का नाम; (वि.) जिसका दमन करना कठिन हो ।
 दुर्दमनीय—(सं. वि.) जो कठिनता से जीता जा सके, प्रचण्ड, प्रबल ।
 दुर्दम्य—(सं. वि.) जो शीघ्र जीता न जा सके; (पुं.) गाय का बछवा ।
 दुर्दर्श—(सं. वि.) जिसको देखना कठिन हो, जो भयंकर रूप का हो ।
 दुर्दर्शन—(सं.पुं.) कौरवों के एक सेनापति का नाम; (वि.) जो जल्दी दिखाई न पड़े ।
 दुर्दय—(सं.पुं.) भिलावाँ, बुरा गर्व या घमंड ।
 दुर्दशा—(सं. स्त्री.) बुरी अवस्था, बुरी दशा, खराब हालत, दुर्गति ।
 दुर्दात—(सं. वि.) जिसका दमन करना कठिन हो, प्रचण्ड, प्रबल; (पुं.) कलह, शिव, महादेव ।
 दुर्दिन—(सं. पुं.) ऐसा दिन जब बादल छाये हों, घटा का अंधकार, वृष्टि,

वर्षा, दूषित दिन, बुरा दिन, कष्ट का समय, दुर्दशा का दिन ।
 दुर्दिवस—(सं.पुं.) दुर्दिन, वरसात का दिन ।
 दुर्दुर्दृष्ट—(सं. वि.) नास्तिक ।
 दुर्दुहा—(सं. स्त्री.) जिसको दूहने में कठिनाई हो ।
 दुर्द्यूत—(सं. पुं.) कपट द्यूत, छल से जुआ खेलना ।
 दुर्द्वै—(सं. पुं.) दुर्भाग्य, पाप, बुरा संयोग, दिनों का बुरा प्रभाव ।
 दुर्द्वैवत्—(सं. वि.) अभागा ।
 दुर्द्वैम—(सं. पुं.) पलाण्डु, प्याज ।
 दुर्धर—(सं. पुं.) एक नरक का नाम, पारा, भिलावाँ, महिषासुर का एक सेनापति, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम, विष्णु, रावण का सेनापति, एक राक्षस जिसको हनुमान ने मारा था; (वि.) कठिनता से होने योग्य, प्रचण्ड, प्रबल, दुर्ज्ञेय, जो सहज में समझ में न आ सके ।
 दुर्धर्म—(सं. वि.) अधर्म-युक्त ।
 दुर्धर्ष—(सं. वि.) जिसका दमन करना कठिन हो, प्रबल, प्रचण्ड; (पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।
 दुर्धर्षण—(सं. वि.) जो सहज म वश में न लाया जा सके ।
 दुर्धर्षता—(सं. स्त्री.) दुर्धर्ष होने का भाव ।
 दुर्धर्षी—(सं. स्त्री.) नागदीना कनियारी वृक्ष ।
 दुर्धर्य—(सं. वि.) जो जल्दी से समझ में न आ सके ।
 दुर्धव—(सं. वि.) जिसका संशोधन करना कठिन हो ।
 दुर्धी—(सं. वि.) बुरी बुद्धि का ।
 दुर्धन्य—(सं. पुं.) नीति विरुद्ध आचरण ।
 दुर्नाद—(सं. पुं.) अप्रिय ध्वनि; (वि.) कर्कश शब्द करनेवाला ।
 दुर्नामक—(सं. पुं.) अर्श रोग, ववासीर का रोग ।
 दुर्नाम—(सं. पुं.) बुरा नाम, अपयज्ञ, सुतुही, सीप, दुष्ट वचन, गाली-गलौज ।
 दुर्नामारि—(सं. पुं.) सूत्र, जमीकन्द, एक कन्द जो अर्श का नाश करता है ।
 दुर्नाम्नी—(सं. स्त्री.) शक्ति, सीप ।
 दुर्निग्रह—(सं. वि.) दुर्गम, जो शीघ्र वश में न आ सके ।
 दुर्निमित्त—(सं.पुं.) अपशकुन, बुरा सगुन ।
 दुर्निमित्त—(सं. वि.) जो बुरे विचार से बनाया गया हो ।
 दुर्नियत—(सं. वि.) जो बड़ी कठिनता से अधीन किया जा सके ।
 दुर्निरीक्ष्य, दुर्न्य—(सं. वि.) जिसको

देखते न बने, कुरूप, भयंकर ।
 दुर्निर्वर्त्य—(सं.वि.) जो कठिनता से किया जा सके ।
 दुर्निवार—(सं. वि.) जो कठिनता से निवारित हो सके ।
 दुर्निवार्य—(सं.वि.) जो जल्दी से निवारित न हो सके, जिसका होना प्रायः निश्चित हो ।
 दुर्नीत—(सं. पुं.) बुरी नीति, कुचाल; (वि.) बुरी चालवाला ।
 दुर्नीति—(सं.स्त्री.) आयुक्त आचरण, अन्याय ।
 दुर्नृप—(सं. पुं.) अन्यायी राजा ।
 दुर्वचन—(हिं.पुं.) दुर्वचन, कुवाक्य, गाली ।
 दुर्वद—(सं. वि.) बुरी तरह से वैधा हुआ ।
 दुर्वल—(सं. वि.) बलहीन, दुबला-पतला, कृश, शिथिल; —ता—(स्त्री.) कृशता, दुबलापन; —त्व—(पुं.) दुर्वलता, कमजोरी ।
 दुर्वला—(सं. स्त्री.) जलसिरिस का पेड़ ।
 दुर्वाल—(सं. वि.) गंजा, खल्वाट; (पुं.) धुंधराले वाला ।
 दुर्वुद्धि—(सं. स्त्री.) दुर्भति, कुबुद्धि; (वि.) मन्द बुद्धिवाला, दुष्ट ।
 दुर्वृध—(सं. वि.) बुरे चित्त का, दुष्ट ।
 दुर्बोध—(सं. वि.) दुर्ज्ञेय, जो सहज में न समझा जा सके, गूढ़, कठिन, क्लिष्ट ।
 दुर्बोध्य—(सं. वि.) जिसका बोध कठिनता से हो सके ।
 दुर्ब्राह्मण—(सं. पुं.) निन्दित ब्राह्मण, जिसके तीन पीढ़ियों से ब्राह्मणत्व का लोप हो गया हो ।
 दुर्भक्ष—(सं. वि.) जो जल्दी से खाया न जा सके, खाने में जो अच्छा न लगे; (पुं) दुर्भक्ष का समय ।
 दुर्भक्ष्य—(सं.वि.) जिसका खाना कठिन हो ।
 दुर्भग—(सं. वि.) बुरे भाग्य का, अभागा ।
 दुर्भगत्व—(सं. पुं.) दुर्भाग्य, अभाग्य ।
 दुर्भगा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जो अपने पति के स्नेह से रहित हो; (वि.स्त्री.) मन्द-भाग्या, अभागिन ।
 दुर्भग्न—(सं.वि.) जो सहज में न टूट सके ।
 दुर्भर—(सं. वि.) दुःसह, गुरु, भारी, जिसको उठाना कठिन हो ।
 दुर्भगी—(सं.वि.) मन्द भाग्यका, अभागा ।
 दुर्भाग्य—(सं. पुं.) मन्द भाग्य, पाप; (वि.) हतभाग्य, अभागा ।
 दुर्भाव—(सं. पुं.) बुरा भाव, द्वेष, मनो-मालिन्य, मन-मुटाव ।
 दुर्भावना—(सं. स्त्री.) बुरी भावना, चिन्ता, अदेगा, खटका ।
 दुर्भाव्य—(सं.वि.) जिसकी भावना सहज में न हो सके ।

दुर्भाषित—(सं.पुं.) बुरा वचन; (वि.) कटु वचन बोलनेवाला।
 दुर्भाषी—(सं.वि.) कटु वचन बोलनेवाला।
 दुर्भिक्ष—(सं.पुं.) ऐसा काल जब भिक्षा या भोजन कठिनता से प्राप्त हो, अकाल।
 दुर्भिक्ष—(हि.पुं.) देखें 'दुर्भिक्ष', अकाल।
 दुर्भिद—(सं.वि.) जो जल्दी से भेदा न जा सके, जिसके पार छेदना कठिन हो।
 दुर्भियज्य—(सं. वि.) जिसकी चिकित्सा सहज में न हो सके।
 दुर्भृत्य—(सं.पुं.) दुष्ट मृत्यु, बुरा नौकर।
 दुर्भेद, दुर्भेद्य—(सं. वि.) जो सहज में भेदा या छेदा न जा सके।
 दुर्भातृ—(सं.पुं.) दुष्ट भ्राता, कपटी भाई।
 दुर्भगल—(सं.वि.) अशुभ, बुरा।
 दुर्भन्त्र, दुर्भन्त्रणा—(सं.पुं.स्त्री.) बुरा परामर्श।
 दुर्भन्त्रित—(सं. वि.) जिसे बुरी मन्त्रणा दी गई हो।
 दुर्भन्त्री—(सं. पुं.) कुमन्त्री, दुष्ट मन्त्री, वह मन्त्री जो राजा को बुरी मन्त्रणा दे।
 दुर्भन्ति—(सं.स्त्री.) दुर्बुद्धि; (वि.) जिसकी समझ ठीक न हो, दुष्ट, नीच।
 दुर्भेद—(सं. वि.) मद से चूर, अभिमान से भरा हुआ; (पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 दुर्भेद—(सं. पुं.) बुरा मन या चित्त; (वि.) खिन्न, उदास, बुरे चित्त का।
 दुर्भेदा—(सं. स्त्री.) शतावरी, सतावर।
 दुर्भेदायमान—(सं. वि.) चिन्तित, उदास।
 दुर्भेदण्य—(सं. पुं.) दुष्ट मनुष्य, खोटा आदमी।
 दुर्भेतु—(सं.वि.) जो दुष्ट समझा जाता हो।
 दुर्भेर—(सं. वि.) जिसकी मृत्यु बड़े कष्ट से हो।
 दुर्भेरण—(सं. पुं.) बुरी तरह से (बड़े कष्ट से) होनेवाली मृत्यु।
 दुर्भेरा—(सं. स्त्री.) सफेद दूब, दीर्घमूली।
 दुर्भेर्व—(सं. वि.) जिसको सहन करना कठिन हो।
 दुर्भेर्वण—(सं. पुं.) वह जो कठिनाई से सहन किया जाय; (पुं.) विष्णु, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 दुर्भेषित—(सं. वि.) जो वैर का बदला लेने के उद्योग में हो।
 दुर्भेली—(सं. स्त्री.) देखें 'दुर्भेलिका'।
 दुर्भेलिका—(सं. स्त्री.) दृश्य काव्य का एक भेद जिसमें हास्य रस प्रधान होता है और जो चार अंकों में समाप्त होता है।
 दुर्भेत्स्य—(सं. पुं.) ईर्ष्या, डाह।
 दुर्भेत्स्य—(सं.वि.) संहारक शस्त्र फेंकनेवाला।

दुर्भिमित्र—(सं. पुं.) अमित्र, शत्रु; (वि.) जिसके दुष्ट मित्र हों।
 दुर्भिमल—(सं. पुं.) भरत के सात पुत्रों में से एक, एक वर्णवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में आठ सगण होते हैं।
 दुर्भिमलका—(सं.स्त्री.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तेईस वर्ण होते हैं।
 दुर्भुख—(सं. पुं.) अथ, घोड़ा, राम की सेना के एक वानर का नाम, महिषासुर का एक सेनापति, रामचन्द्र के एक गुप्तचर का नाम, एक नाग का नाम, शिव, महादेव, एक संवत्सर का नाम, गणेश का एक गण, वह घर जिसका द्वार उत्तर की ओर हो; (वि.) अप्रियवादी, कटु वचन बोलनेवाला।
 दुर्भुखा—(सं. स्त्री.) सफेद घुंघची, श्वेत गुंजा।
 दुर्भुस—(हि.पुं.) लोहे या पत्थर का डंडा लगा हुआ गदा के आकार का एक यन्त्र जो मिट्टी या कंकड़ पीटने के काम में आता है, दुरभुस।
 दुर्भुहर्त—(सं. पुं.) बुरा मुहूर्त, बुरा समय।
 दुर्भुल्य—(सं. वि.) जिसका दाम अधिक हो, महंगा।
 दुर्भेधस्—(सं. वि.) मन्द-बुद्धि।
 दुर्भेधवी—(सं. वि.) देखें 'दुर्भेधस्'।
 दुर्भेत्त्र—(सं. पुं.) दुष्ट बन्धु, बुरा मित्र।
 दुर्भेत्का—(सं. स्त्री.) श्वेत गुंजा, सफेद घुंघची।
 दुर्भेह—(सं. पुं.) काकतुण्डी, कौवाठोंठी।
 दुर्भेहा—(सं.स्त्री.) सफेद या लाल घुंघची।
 दुर्भेय—(सं. पुं.) घर के द्वार पर का खंभा।
 दुर्भेयश—(सं. पुं.) अपयश, अपकीर्ति।
 दुर्भेयोंग—(सं. पुं.) दुर्भाग्य-सूचक योग।
 दुर्भेयोंध—(सं. वि.) युद्ध में स्थिर रहनेवाला; (पुं.) विकट योद्धा।
 दुर्भेयधन—(सं. पुं.) कुशवंशीय राजा घृतराष्ट्र के सब से बड़े पुत्र, (यह महाभारत के युद्ध में प्रधान नायक तथा कौरव दल के नेता थे। इन्हीं के साथ जया खेलने पर तथा जुए में हारकर युधिष्ठिर ने अपना सारा राज्य गँवा दिया था। हारने पर युधिष्ठिर को अपने चारों भाइयों सहित बारह वर्ष तक वनवास करना पड़ा था तथा अर्जुन को एक वर्ष तक अज्ञातवास भी करना पड़ा था। यहाँ से लौट आने पर दुर्भेयधन ने पाण्डवों को राज्य देना अस्वीकार किया जिस कारण से महाभारत का युद्ध हुआ था।)

दुर्भेयानि—(सं.स्त्री.) म्लेच्छ या नीच जाति।
 दुर्भेयधन—(सं. वि.) जो सहज में लांघा न जा सके।
 दुर्भेय्य—(सं. वि.) अलंघ्य, जो जल्दी से लांघा न जा सके।
 दुर्भेक्षण—(सं. पुं.) अशुभ लक्षण।
 दुर्भेक्ष्य—(सं. वि.) अदृश्य, जो कठिनता से दिखाई पड़े; (पुं.) बुरा उद्देश्य।
 दुर्भेलिका—(सं.स्त्री.) एक प्रकार का छन्द।
 दुर्भेभ—(सं. वि.) दुष्प्राप्य, जो कठिनता से मिल सके, अति प्रशस्त, अनोखा, प्रिय, प्यारा; (पुं.) विष्णु।
 दुर्भेभा—(सं. स्त्री.) सफेद भटकटैया, लाल जवासा।
 दुर्भेलित—(सं. पुं.) दुष्कर्म, पाप; (वि.) दुष्कर्म करनेवाला, चंचल, चपल।
 दुर्भेसित—(सं. पुं.) बुरी चेष्टा, बुरा काम।
 दुर्भेभ—(सं. पुं.) दुःख द्वारा प्राप्त लाभ।
 दुर्भेय्य—(सं. पुं.) निन्दित लेख्यपत्र; (वि.) जिसकी लिखावट बुरी हो।
 दुर्भेवच, दुर्भेवचन—(सं.पुं.) कटुवचन, गाली-गलौज।
 दुर्भेवराह—(सं. वि.) पाला हुआ शूकर।
 दुर्भेवर्ण—(सं.पुं.) रजत, चाँदी, बुरा अक्षर; (वि.) नीच जाति का, बुरे रंग का।
 दुर्भेवर्तु—(सं.वि.) जिसको हटाना कठिन हो।
 दुर्भेवस—(सं.वि.) जहाँ रहने में बड़ा कष्ट हो।
 दुर्भेवह—(सं. वि.) जिसको उठाकर ले जाना कठिन हो।
 दुर्भेवत्—(सं.स्त्री.) निन्दित वाक्य, दुर्भेवचन।
 दुर्भेवच्य—(सं. पुं.) अपकीर्ति, निन्दा।
 दुर्भेवद—(सं. पुं.) अपकीर्ति, निन्दा, स्तुति-पूर्वक कहा हुआ अप्रिय वचन, अनुचित वचन।
 दुर्भेवार्—(सं. वि.) जिसका निवारण करना या हटाना कठिन हो।
 दुर्भेवार्ण—(सं. वि.) जो सहज में रोका न जा सके; (पुं.) शिव, महादेव।
 दुर्भेवार्णित—(सं. वि.) कष्ट से हटया हुआ।
 दुर्भेवार्ता—(सं. स्त्री.) बुरा समाचार।
 दुर्भेवार्थ—(सं.वि.) जो जल्दी से रोका जा सके।
 दुर्भेवार्सना—(सं. स्त्री.) बुरी वासना, बुरी आकांक्षा, वह कामना जो कभी पूरी न हो।
 दुर्भेवार्सा—(सं. पुं.) एक बड़े धर्मनिष्ठ ऋषि जो अत्रि मुनि के पुत्र थे, (इनका स्वमार्ग बड़ा उग्र था।)
 दुर्भेवार्हित—(सं. वि.) जिसको उठाकर ले जाना कठिन हो।
 दुर्भेविकत्यन—(सं. वि.) बड़े अभिमान से कहा हुआ।

दुर्विगाह—(सं. वि.) जिसका थाह जल्दी न लग सके ।

दुर्विगाह्य—(सं. वि.) जिसका थाह लगाना कठिन हो ।

दुर्विचित्य—(सं. वि.) जो जल्दी से सोचा न जा सके ।

दुर्विज्ञान—(सं. वि.) जो कठिनता से जाना जा सके ।

दुर्विज्ञेय—(सं. वि.) जिसका कठिनता से ज्ञान हो ।

दुर्वितर्क्य—(सं. वि.) जिसका वितर्क या निश्चय करने में कठिनता हो ।

दुर्विद—(सं. वि.) जिसको जानना कठिन हो ।

दुर्विदग्ध—(सं. वि.) अहंकारी, अघजला ।

दुर्विदग्धता—(सं. स्त्री.) विनय का अभाव ।

दुर्विद्य—(सं. वि.) अशिक्षित, मूर्ख ।

दुर्विद्य—(सं. वि.) दरिद्र, मूर्ख, खल, दुष्ट ।

दुर्विधि—(सं. पुं.) कुनियम, बुरी नीति ।

दुर्विधेय—(सं. पुं.) अशिष्टाचार ।

दुर्विनीत—(सं. वि.) अविनीत, अशिष्ट, उद्धत ।

दुर्विनीति—(सं. स्त्री.) विनय का अभाव, अक्लड़पन ।

दुर्विपाक—(सं. पुं.) बुरा परिणाम, बुरा फल, दुर्घटना, बुरा संयोग ।

दुर्विभाग—(सं. पुं.) वह जिसका विभाग जल्दी से न हो सके ।

दुर्विभाध्य—(सं. वि.) दुर्बोध, जिसका अनुमान न किया जा सके ।

दुर्विभाव—(सं. पुं.) दुर्वाच्य, बुरा वचन ।

दुर्विभोचन—(सं. वि.) जिसका छुटकारा पाना कठिन हो; (पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।

दुर्विलसित—(सं. पुं.) दुष्कार्य, बुरा काम ।

दुर्व्यवृत्ता—(सं. पुं.) कटु भाषण करनेवाला ।

दुर्विवाह—(सं. पुं.) निन्दित स्त्री से विवाह करना ।

दुर्विष—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

दुर्विपह—(सं. वि.) असह्य, जो अत्यन्त दुःख से सहा जा सके; (पुं.) शिव, महादेव, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।

दुर्विपह—(सं. वि.) अत्यन्त दुःख से सहने योग्य ।

दुर्वृत्त—(सं. पुं.) निन्दित आचरण, बुरा व्यवहार; (पुं.) दुर्जन ।

दुर्वृत्ति—(सं. स्त्री.) निन्दित आचरण, बुरा काम ।

दुवद—(सं. वि.) दुष्प्राप्य, दुर्लभ ।

दुर्व्यवस्था—(सं. स्त्री.) कुप्रवृत्त ।

दुर्व्यवस्थापक—(सं. पुं.) कुप्रबंध करनेवाला ।

दुर्व्यवहार—(सं. पुं.) दुष्ट आचरण, बुरा

व्यवहार ।

दुर्व्यसन—(सं. पुं.) बुरी देव ।

दुर्व्यसनी—(सं. वि.) जिसको बुरी लत लगी हो ।

दुर्व्याहृत—(सं. वि.) जिसमें बुरे शब्दों का व्यवहार हो ।

दुर्व्रत—(सं. पुं.) दुष्ट मनोरथ, बुरा आशय ।

दुर्वृण—(सं. वि.) जिसको मारना कठिन हो ।

दुर्वृल—(सं. वि.) कुरूप ।

दुर्वृत्—(सं. पुं.) शत्रु, वैरी ।

दुर्वृत्—(सं. पुं.) निन्दित होम ।

दुर्वृद—(सं. पुं.) शत्रु, वैरी ।

दुर्वृदय—(सं. वि.) दुष्ट अन्तःकरण का, खोटा ।

दुलकना—(हि. क्रि. अ.) अस्वीकार करना ।

दुलकी—(हि. स्त्री.) घोड़े की वह चाल जिसमें वह कुछ उछलता हुआ पैरों को थोड़ा-थोड़ा उठाकर दौड़ता है ।

दुलखना—(हि. क्रि. स.) बारंबार बतलाना या कहना, दुलकना ।

दुलखी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कृपि-फल को हानि पहुँचानेवाला कीड़ा ।

दुलड़ा—(हि. वि.) दो लड़ों का ।

दुलड़ी—(हि. वि. स्त्री.) दो लड़ों की (माला) ।

दुलसी—(हि. स्त्री.) मलखंस का एक व्यायाम, चौपायों का पिछले दोनों पैरों का एक साथ उठाकर फटकारना ।

दुलजुल—(अ. पुं.) वह मादा खच्चर जिसे मित्त के प्रशासक ने मुहम्मद साहब को दिया था; मुहर्रम के नवें दिन जुलूस के साथ निकाला जानेवाला घोड़ा ।

दुलना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'दुलना' ।

दुलभ—(हि. वि.) देखें 'दुर्लभ' ।

दुलरा—(हि. वि.) दुलारा ।

दुलराना—(हि. क्रि. अ., स.) लाड़ करना, प्यार करना, बच्चों को बहलाना, इठारना ।

दुलरी—(हि. स्त्री.) देखें 'दुलड़ी' ।

दुलहन—(हि. स्त्री.) नव विवाहिता वधु, नई व्याही हुई स्त्री ।

दुलहा, दुलहा—(हि. पुं.) देखें 'दुल्हा' ।

दुलहाई—(हि. स्त्री.) विवाह का एक गीत ।

दुलहिन—(हि. स्त्री.) देखें 'दुलहन' ।

दुलहेटा—(हि. पुं.) दुलारा बेटा, प्रियपुत्र ।

दुलहिया, दुलही—(हि. स्त्री.) देखें 'दुलहन' ।

दुलाई—(हि. स्त्री.) लई भरी हुई ओढ़ने की हलकी रजाई ।

दुलाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'दुलाना' ।

दुलार—(हि. पुं.) अनुराग, प्रेम, लाड़-प्यार ।

दुलारना—(हि. क्रि. स.) बच्चों को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ प्यार भरी चेष्टाएँ

करना, लाड़ करना, प्रेम दिखलाना ।

दुलारा—(हि. वि.) प्रिय, प्यारा, लाड़ला; (पुं.) प्रिय पुत्र, लाड़ला बेटा ।

दुलारी—(हि. स्त्री.) प्रिय कन्या, लाड़ली बेटो ।

दुलीचा, दुलैचा—(हि. पुं.) गलीचा ।

दुलोही—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की तलवार जो लोहे के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है ।

दुल्ल—(सं. पुं.) रेशम ।

दुल्लभ—(हि. वि.) देखें 'दुर्लभ' ।

दुव—(हि. वि.) दो संख्या का, दो ।

दुवन—(हि. पुं.) दुर्जन, बुरा मनुष्य, राक्षस, वैत्य, शत्रु, वरी ।

दुवस—(सं. पुं.) टहल ।

दुवस्य—(सं. वि.) सेवा करने योग्य ।

दुवाज—(हि. पुं.) एक प्रकार का घोड़ा ।

दुवादस—(हि. वि.) देखें 'द्वादस', बारह ।

दुवाली—(हि. स्त्री.) परतले में लगा हुआ खोल जिसमें तलवार आदि लटकाई जाती है, छपे बस्त्र पर चमक लाने का एक औजार ।

दुवार—(हि. पुं.) देखें 'द्वार' ।

दुविधा—(हि. स्त्री.) देखें 'दुविधा' ।

दुवो—(हि. वि.) देखें 'दोनों'; (पुं.) वैरी, शत्रु ।

दुवचक्रम—(सं. पुं.) गोकुल, गोकुल ।

दुवचर—(सं. वि.) दुष्कर, जिसका करना कठिन हो, दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो; (पुं.) भालू, सीप; -त्व—(पुं.) दुर्गमता, कठिनता ।

दुवचरित्र—(सं. पुं.) बुरा आचरण, पाप, कुचाल; (वि.) निन्दित या बुरे आचरण का ।

दुवचर्मा—(सं. पुं.) वह मनुष्य जिसके लिंगेन्द्रिय के मुख पर ढापनेवाला चमड़ा न हो ।

दुवचलन—(हि. पुं.) बुरा आचरण, खोटी चाल ।

दुवचारित्र—(सं. पुं.) दुष्ट चरित्र, पाप; (वि.) बुरे चरित्र का ।

दुवचित्ता—(सं. स्त्री.) आशंका, बुरी चिन्ता ।

दुवचित्य—(सं. वि.) जो कठिनता से चिन्तन किया जा सके ।

दुश्चिकित्स—(सं. वि.) जिसकी चिकित्सा करना कठिन हो ।

दुश्चिकित्सा—(सं. स्त्री.) अनियमित या अननुकूल चिकित्सा ।

दुश्चिकित्सित—(सं. वि.) जिसकी चिकित्सा बड़ी कठिनता से हुई हो ।

दुश्चिकित्स्य—(सं. वि.) जिसकी चिकित्सा बड़ी कठिनता से हो सके ।

दुश्चित—(सं. पुं.) व्यग्रता, घबड़ाहट ।
दुश्चेष्टा—(सं. स्त्री.) कुचेष्टा, बुरा काम ।
दुश्चेष्टित—(सं. पुं.) निन्दित कर्म, पाप, दुष्कर्म ।
दुश्चयवन—(सं. पुं.) इन्द्र का एक नाम ।
दुश्ध्याद—(सं. पुं.) शिव, महादेव; (वि.) जो सहज में हटाया न जा सके ।
दुश्मन—(फा. पुं.) शत्रु, वैरी, अपकारी ।
दुश्मनी—(फा. स्त्री.) शत्रुता, वैर ।
दुष्कर—(सं. वि.) अत्यन्त दुःख से करने योग्य, जिसको करना कठिन हो, दुःसाध्य ।
दुष्करण—(सं. वि.) जो कठिनता से किया जा सके ।
दुष्कर्ण—(सं. पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।
दुष्कर्म—(सं. पुं.) कुकर्म, पाप, बुरा काम ।
दुष्कर्मी—(हिं. वि.) दुराचारी, कुकर्मी, पापी ।
दुष्कलेवर—(सं. पुं.) बुरा शरीर ।
दुष्काल—(सं. पुं.) आपाद् काल, कुसमय, दुर्भिक्ष, अकाल, शिव, महादेव ।
दुष्कीर्ति—(सं. स्त्री.) अपयश; (वि.) जिसमें अपयश हो ।
दुष्कुल—(सं. पुं.) निन्दित कुल, अकुलीनता; (वि.) नीच कुल का ।
दुष्कृत—(सं. पुं.) नीच कार्य, बुरा काम, पाप; -कर्म—(वि.) पापी, बुरा काम करनेवाला ।
दुष्कृतात्मा—(सं. वि.) दुरात्मा, खोटा ।
दुष्कृति—(सं. स्त्री.) कुकर्म, बुरा काम ।
दुष्कृष्ट—(सं. वि.) कठिनता से खींचा या जोता जानेवाला ।
दुष्क्रिया—(सं. स्त्री.) कुकार्य, बुरा काम ।
दुष्क्रीत—(सं. वि.) महंगा, महंगे दाम का ।
दुष्ट—(सं. वि.) अधम, नीच, खोटा, दोषयुक्त, खल; दुराचारी, दुर्जन, पित्त आदि दोष से युक्त, -चारी—(वि.) बुरा आचरण करनेवाला, दुर्जन; -चेता—(वि.) बुरे विचार का, अहित चाहनेवाला, कपटी; -ता—(स्त्री.) दुर्जनता, दोष, बुराई; -त्व—(पुं.) दुष्टता, खोटाई; -पना—(हिं. पुं.) दुष्टता, दुष्टत्व, खोटाई; -योग—(पुं.) ज्योतिष के अनुसार अरिष्ट-सूचक योग; -वृष—(पुं.) गरियार बैल; -व्रण—(पुं.) वह घाव जो जल्दी से अच्छा न हो; -साक्षी—(वि.) कूट-साक्षी ।
दुष्टाचार—(सं. पुं.) कुकर्म, कुचाल, खोटा काम ।
दुष्टाचारी—(सं. वि.) कुकर्मी ।
दुष्टात्म—(सं. वि.) खोटी प्रकृति का,

जिसका अन्तःकरण बुरा हो ।
दुष्टात्म—(सं. पुं.) कुत्सित अन्न, वासी अन्न, पाप की कमाई का अन्न ।
दुष्पच—(सं. वि.) जो जल्दी न पचे, गरिष्ठ ।
दुष्पतन—(सं. पुं.) अपशब्द ।
दुष्पत्र—(सं. पुं.) चोर नामक गन्ध-द्रव्य ।
दुष्पद—(सं. वि.) दुःख से प्राप्त ।
दुष्परिग्रह—(सं. वि.) जो सहज में वश में न लाया जा सके, जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी हो; -हा (स्त्री.) कुलटा ।
दुष्परिहंसु—(सं. वि.) जिसको मारना कठिन हो ।
दुष्परीक्ष—(सं. वि.) जिसकी जाँच कठिनता से हो ।
दुष्पर्श—(सं. वि.) जिसको स्पर्श करना कठिन हो, दुष्प्राप्य, जो सहज में प्राप्त न हो सके ।
दुष्पान—(सं. वि.) जो कठिनता से पिया जा सके ।
दुष्पार—(सं. वि.) दुःसाध्य, कठिन ।
दुष्पुत्र—(सं. पुं.) कुपुत्र, नालायक लड़का, (वि.) जिसके पुत्र बुरे हों ।
दुष्पूर—(सं. वि.) अनिवार्य, जो सहज में पूरा न हो सके ।
दुष्प्रकाश—(सं. पुं.) अन्धकार, अँधेरा ।
दुष्प्रकृति—(सं. वि.) दुःशील, बुरे स्वभाव का; (स्त्री.) खोटा स्वभाव ।
दुष्प्रज्ञ—(सं. वि.) निर्बोध, अनजान ।
दुष्प्रज्ञान—(सं. पुं.) निन्दनीय ज्ञान ।
दुष्प्रतिग्रह—(सं. वि.) जो जल्दी से ग्रहण न किया जा सके ।
दुष्प्रधर्ष—(सं. वि.) जो जल्दी से न पकड़ा जा सके; (पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।
दुष्प्रमेय—(सं. वि.) जो सहज में न नापा जा सके, अप्रमेय ।
दुष्प्रलभ—(सं. वि.) जो सहज में न टगा जा सके, जो सहज में प्राप्त न हो सके ।
दुष्प्रवाद—(सं. पुं.) अशिष्ट वात-चीत ।
दुष्प्रवृत्ति—(सं. स्त्री.) बुरी प्रवृत्ति ।
दुष्प्रवेश—(सं. वि.) जिसमें घुसना कठिन हो ।
दुष्प्रसह—(सं. वि.) दुःसह, जिसका सहना कठिन हो, भीषण, भयानक ।
दुष्प्रसाद—(सं. वि.) जो कठिनता से प्रसन्न किया जा सके ।
दुष्प्रधर्ष—(सं. वि.) जो सहज में प्रसन्न न हो; (पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।
दुष्प्राय—(सं. वि.) दुर्लभ, जो कठिनता से प्राप्त हो सके ।
दुष्प्राप्ति—(सं. स्त्री.) वह वस्तु जो

कठिनता से प्राप्त हो सके ।
दुष्प्राप्य—(सं. वि.) जो सहज में प्राप्त न हो सके ।
दुष्प्रीति—(सं. स्त्री.) अप्रीति, बुरा प्रेम ।
दुष्प्रेक्ष—(सं. वि.) दुर्दर्श, जिसको देखना कठिन हो, भीषण, भयंकर ।
दुष्प्रेक्षणीय—(सं. वि.) अदर्शनीय ।
दुष्मन्त—(सं. पुं.) देखें 'दुष्यन्त' ।
दुष्यन्त—(सं. पुं.) एक पुरु-वंशी राजा जिन्होंने कण्व ऋषि के आश्रम में शकुन्तला से गान्धर्व विवाह किया था और इनसे भरत नामक अति प्रतापी राजा उत्पन्न हुए थे ।
दुसह—(हिं. वि.) असह्य, जो सहन न हो सके ।
दुसही—(हिं. वि.) जो कठिनता से सहा जा सके ।
दुसाखा—(हिं. पुं.) एक प्रकार की दीवट जिसमें दो शाखाएँ निकली होती हैं ।
दुसाध—(हिं. पुं.) हिन्दुओं में एक नीच जाति का नाम, (ये लोग सुअर पालते हैं) ।
दुसार—(हिं. पुं.) आरपार छेद; (अव्य.) आरपार ।
दुसाल—(हिं. पुं.) देखें 'दुसार', आरपार छेद ।
दुसासन—(हिं. पुं.) देखें 'दुःशासन' ।
दुसाहा—(हिं. पुं.) वह खेत जिसमें दो बार खेती हो ।
दुसुती—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मोटी चादर जिसमें दो तागों का ताना और बाना रहता है ।
दुसेजा—(हिं. पुं.) पलंग, दो आदमियों के सोने की बड़ी खाट ।
दुस्तर—(सं. वि.) दुर्घट, विकट, जिसको पार करना कठिन हो ।
दुस्त्यज—(सं. वि.) जिसका त्यागना कठिन हो ।
दुस्थ—(सं. वि.) जिसका रहना कठिन हो ।
दुस्पृष्ट—(सं. वि.) जो बुरी तरह से छूआ गया हो ।
दुस्पर्शा—(सं. स्त्री.) आकाशवल्ली लता, भटकटैया ।
दुस्फोट—(सं. वि.) घातक व्रण या घाव; (पुं.) एक प्रकार का प्राचीन शस्त्र ।
दुसह—(हिं. वि.) देखें 'दुःसह' ।
दुहता—(हिं. पुं.) दोहित, नाती, बेटी का पुत्र ।
दुहत्या—(हिं. वि.) दोनों हाथों से किया जानेवाला, जिसमें दो मूठें हों ।
दुहत्थी—(हिं. स्त्री.) मलखंभ का एक व्यायाम; (वि. स्त्री.) दुहत्या ।
दुहना—(हिं. क्रि. स.) स्तन में से दूध निकालना, निचोड़ना, तत्त्व निकालना, सार खींचना;

(मुहा.) दुह लेना—लूट लेना, घन हर लेना
 दुहनी—(हि. स्त्री.) वह पात्र जिसमें
 गाय, भैंस आदि का दूध दुहा जाता है।
 दुहरा—(हि. वि.) देखें 'दोहरा'।
 दुहराना—(हि. क्रि. स.) देखें 'दोहराना'।
 दुहाई—(हि. स्त्री.) घोषणा, सहायता के
 लिए पुकार, शपथ, सौगन्ध, गाय-भैंस
 आदि को दुहने का काम, दुहने की
 मजदूरी; (मुहा.)—देना-सहायता के
 लिए किसी का नाम लेकर पुकारना;
 -फिरना-घोषणा करना।
 दुहाग—(हि. पुं.) दुर्भाग्य, वैधव्य, रँडपा।
 दुहागिन—(हि. स्त्री.) विधवा स्त्री।
 दुहागी—(हि. वि.) अभागा, दुर्भाग्य।
 दुहाजू—(हि. वि.) वह मनुष्य या स्त्री
 जो पत्नी या पति के मरने पर दूसरा
 विवाह करे।
 दुहाना—(हि. क्रि. स.) किसी अन्य पुरुष से
 दुहने का काम कराना।
 दुहाव—(हि. स्त्री.) मूपति द्वारा उत्सव के
 दिन किसान की गाय-भैंस का दूध
 दुहाकर लेना, इस प्रथा के अनुसार
 लिया हुआ दूध।
 दुहावनी—(हि. स्त्री.) दुहाई, दूध दुहने
 का शुक।
 दुहित—(हि. स्त्री., सं.) दुहितृ कन्या,
 लड़की, पुत्री।
 दुहितृपति, दुहितृपति—(सं. पुं.) जामाता,
 दामाद।
 दुहिन—(हि. पुं.) ब्रह्मा।
 दुहेल—(हि. पुं.) संकट, बलेश।
 दुहेला—(हि. वि.) दुःसाध्य, दुःखदायी,
 कठिन; (पुं.) कठिन कार्य, विकट खेल।
 दुहोतरा—(हि. पुं.) कन्या का पुत्र, नाती,
 (वि.) दो और, दो अधिक।
 दुह्य—(सं. वि.) दुहने योग्य।
 दुह्यमान—(सं. वि.) जो दुहा जाय।
 दुद—(हि. पुं.) ऊधम।
 दुदना—(हि. क्रि. अ.) ऊधम मचाना।
 दु—(सं. पुं.) रोग, बीमारी।
 दुआ—(हि. पुं.) कलाई पर पहिने का एक
 प्रकार का आभूषण, तारा का पत्ता जिसमें
 ढो बूटियाँ हों, किसी खेल का दाँव।
 दुइज—(हि. स्त्री.) किसी पक्ष की दूसरी
 तिथि, दुइज।
 दुक—(हि. वि.) दो-एक, एकाव।
 दुकान—(हि. पुं.) देखें 'दुकान';—दार,
 -री—(हि. पुं., स्त्री.) देखें 'दुकानदार,
 दुकानदारी'।
 दुसक—(हि. पुं.) दोष।

दुखना—(हि. क्रि. अ., स.) दोष लगाना,
 पीड़ा होना।
 दुगा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी बकरा।
 दुज—(हि. स्त्री.) किसी पक्ष की दूसरी
 तिथि, द्वितीया; (मुहा.)—का चाँद होना—
 बहुत दिनों बाद दर्शन होना, बहुत
 कम आना-जाना।
 दुजा—(हि. वि.) दूसरा।
 दुडाश—(सं. वि.) पीड़ित, दुःखित।
 दूत—(सं. पुं.) संवाद पहुँचानेवाला चर,
 प्रेमी-प्रेमिका का संदेश एक दूसरे से
 जाकर कहनेवाला, परराष्ट्र में नियुक्त
 किसी राज्य का प्रतिनिधि, राजदूत।
 दूतक—(सं. पुं.) राजा की आज्ञा को
 सर्वसाधारण में पहुँचानेवाला।
 दूतकत्व—(सं. पुं.) दूत का काम।
 दूतकर्म—(सं. पुं.) समाचार पहुँचाने का काम
 दूतघनी—(सं. स्त्री.) गोरखमुण्डी।
 दूतता—(सं. स्त्री.) दूत का काम।
 दूतत्व—(सं. पुं.) दूतता।
 दूतपन—(हि. पुं.) दूत का काम।
 दूतावास—(हि. पुं.) दूत के रहने का स्थान।
 दूतिका—(सं. स्त्री.) दूती, कुटनी।
 दूती—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जो प्रेमी और
 प्रेमिका का संदेश एक दूसरे के पास
 पहुँचाती है, संचारिका, कुटनी।
 दूत्य—(सं. पुं.) दूत-कर्म, दूत होने का भाव।
 दूदला—(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष।
 दूध—(हि. पुं.) स्तन में से निकलनेवाला
 वह सफेद तरल पदार्थ जिससे बच्चों
 का बहुत दिनों तक पालन-पोषण होता
 है, दूध के समान वह तरल द्रव जो
 अनेक पौधों की डंठल तथा पत्तियों
 से निकलता है; (मुहा.)—उतरना-स्तनों
 में दूध भर जाना;—का दाँत टूटना—
 दाल्यावस्था होना;—का दूध और पानी
 का पानी—ऐसा न्याय जिसमें पक्षपात
 का लेश भी न हो;—की मक्खी
 की तरह निकालकर फेंक देना—किसी
 मनुष्य को अति तुच्छ जानकर निकाल
 देना;—फटना-दूध का छेना और
 पानी अलग हो जाना;—भर आना—
 माता के स्तन में बच्चे के स्नेह के कारण
 दूध भर आना; दूधों नहाओ पूतों
 फलो-परिवार तथा धन की वृद्धि
 के लिए आशीर्वाद;—चढ़ी—(वि. स्त्री.)
 जिसके स्तन में दूध पहिले से बढ़ गया
 हो;—पिलाई—(स्त्री.) दूध पिलाने-
 वाली धाव, विवाह की एक प्रथा जिसमें
 वर को उसकी माता वारात के प्रस्थान

के समय अपना दूध पिलाने की मुद्रा
 करती है, वह धन जो इस क्रिया के
 बदले उसको दिया जाता है;—पूत—(पुं.)
 धन और सन्तति;—बहन—(स्त्री.)
 शैशवावस्था में दो बच्चों का एक ही
 स्त्री का दूध पीकर पले होने के नाते
 होनेवाला बहन का संबंध;—भाई—
 (पुं.) ऐसे दो बालक जो एक ही
 स्त्री के स्तन का दूध पीकर पले हों
 परन्तु वे सहोदर भाई न हों;
 -मसहरी—(स्त्री.) एक प्रकार का
 महीन रेशमी कपड़ा;—मूहाँ—(वि. पुं.)
 जो अभी तक माता का दूध पीता हो,
 शिशु, बालक, छोटा बच्चा;—मुख—
 (पुं.) छोटा बच्चा, शिशु;—राज—
 (पुं.) एक प्रकार की बुलबुल, चाँड़े
 फन का एक प्रकार का सर्प;—वाला—
 (पुं.) दूध बेचनेवाला, खाला।—हँड़ी—
 (स्त्री.) दूध गरम करनेका मिट्टीका पात्र।
 दुधा—(हि. पुं.) एक प्रकार का अगहनिया
 घान, अनाज के कच्चे दाने का रस।
 दुधाभाती—(स्त्री.) विवाह की एक
 रीति जिसमें वर कन्या को तथा कन्या
 वर को दूध और भात खिलाती है।
 दुधिया—(हि. वि.) दुग्ध-संबंधी, जिसमें
 दूध मिला हो, दूध के रंग का, सफेद;
 (पुं.) एक प्रकार का चिकना तथा सफेद
 पत्थर, एक प्रकार का रत्न, एक प्रकार
 का सोहन-हलुआ;—खाकी—(पुं.)
 एक प्रकार का मटमैला सफेद रंग।
 दून—(सं. वि.) चलते चलते थका हुआ,
 दुःखित, दुःख से व्याकुल; (हि. स्त्री.)
 दूने का भाव, साधारण से कुछ जल्दी
 गाना; (पुं.) तराई, घाटी; (मुहा.)—
 फी लेना या हाँकना—आत्म-श्लाघा
 करना, डींग हाँकना।
 दूनर—(हि. वि.) जो लचककर दोहरा हो
 गया हो।
 दूनसिरिस—(हि. पुं.) एक प्रकार का
 पहाड़ी सिरिस का वृक्ष।
 दूना—(हि. वि.) द्विगुण, दुगुणा।
 दूनों—(हि. वि.) दोनों।
 दूव—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की प्रसिद्ध
 वास, दुवा।
 दूवरा—(हि. वि.) दुवल, दुबला।
 दुविया—(हि. वि., पुं.) एक प्रकार का हरा
 (रंग)।
 दुवे—(हि. पुं.) गन्धों की एक उपाधि, द्विवेदी।
 दुभर—(हि. वि.) दुःसाध्य, कठिन
 दूमना—(हि. क्रि.) हिलना, डोलना

दूमा—(हि. पुं.) चमड़े का छोटा थैला जिसमें पहाड़ी लोग चाय की पत्ती रखते हैं।

दूरंगम—(सं.वि.) बहुत दूर तक जानेवाला।

दूरदेश—(फा. वि.) देखें 'दूरदर्शी'।

दूरदेशी—(फा. स्त्री.) देखें 'दूरदर्शिता'।

दूर—(हि. अव्य.) अनिकट; (मूहा.)

—करना—अलग करना, हटाना, मिटाना;

दूर की बात—सूक्ष्म बात; —भागना—

अलग रहना, पास न जाना; —होना—

हट जाना, नष्ट होना।

दूरक—(सं. वि.) जो दूर हो।

दूरग—(सं.वि.) बहुत; (पुं.) ऊँट, गवहा।

दूरगत, दूरगामी—(सं. वि.) जो बहुत

दूर तक चला गया हो।

दूरग्रहण—(सं. पुं.) बहुत दूर से ग्रहण

करने की शक्ति।

दूरचर—(सं. वि.) दूर तक चलनेवाला।

दूरजम—(सं. पुं.) वैदूर्यमणि।

दूरता—(हि. स्त्री.) देखें 'दूरत्व'।

दूरत्व—(सं. पुं.) दूर होने का भाव,

अन्तर, दूरी, फासला।

दूरदर्शक—(सं. वि.) देखें 'दूरदर्शी';

—यंत्र—(हि. पुं.) दूरवीन।

दूरदर्शन—(सं. पुं.) दूर से दर्शन, गीध,

पण्डित।

दूरदर्शिता—(सं. स्त्री.) दूरदर्शी होने का गुण।

दूरदर्शी—(सं. वि.) दूरदर्शक, बहुत दूर की

बात या अपना भविष्य सोचनेवाला;

(पुं.) पंडित, बुद्धिमान, गूध।

दूरदृष्टि—(सं. स्त्री.) दूरदर्शन, भविष्य

का विचार।

दूरनिरीक्षण—(सं. पुं.) दूरदर्शन यन्त्र, दूरवीन।

दूरवा—(हि. स्त्री.) देखें 'दूर्वा'।

दूरमूल—(सं. पुं.) मूँज, जवासा, यवासक।

दूरयात्री—(सं. वि.) दूरगामी, दूर जाने-

वाला।

दूरवर्ती—(सं. वि.) दूरस्थित, जो दूर हो।

दूरवस्त्रक—(सं. वि.) वस्त्रहीन, नंगा।

दूरवासी—(सं. वि.) दूर देश में रहनेवाला।

दूरवीक्षण—(सं. पुं.) वह यन्त्र जिससे दूर की

वस्तु बहुत पास और बड़ी दिखाई पड़ती है।

दूरवेधी—(सं. पुं.) वह जो दूर से लक्ष्य

लगा सकता हो।

दूरसंस्थ—(सं. वि.) दूरवर्ती, दूरस्थित।

दूरस्थ—(सं. वि.) दूरस्थित, दूर का।

दूरस्थान—(सं. पुं.) दूरस्थता, वह स्थान

जो दूर हो।

दूरापात—(सं. पुं.) वह अस्त्र जो दूर से

फककर मारा जाता हो।

दूराप्लाव—(सं. वि.) जो दूर से उछलता हो।

दूरावस्थित—(सं. वि.) दूरवर्ती, जो दूर हो।

दूरी—(हि. स्त्री.) दूरत्व।

दूरीकरण—(सं. पुं.) दूर करने की क्रिया।

दूरीकृत—(सं. वि.) जो दूर कर दिया

गया हो।

दूरीभूत—(सं. वि.) दूर किया हुआ।

दूरेभा—(सं. वि.) दूर से चमकनेवाला।

दूरेयम—(सं. वि.) जहाँ पर यम न

पहुँच सकें।

दूरेवध—(सं. वि.) दूर से मारनेवाला।

दूरेस्थ—(सं. वि.) दूरस्थ, जो दूर हो।

दूरोह—(सं. पुं.) आदित्यलोक; (वि.)

जिस पर चढ़ना कठिन हो।

दूरोहण—(सं. पुं.) आदित्य, सूर्य, एक

प्रकार का छन्द; (वि.) जो चढ़ने योग्य

न हो, जिस पर चढ़ना कठिन हो।

दूर्य—(सं. पुं.) पुरीष, विष्ठा।

दूर्वा—(सं. स्त्री.) दूर्व नाम की घास।

दूर्वाक्षी—(सं. स्त्री.) वासुदेव के भाई

वृक की स्त्री।

दूर्वाष्टमी—(सं. स्त्री.) भादों सुदी अष्टमी

का नाम।

दूर्वासोम—(सं. पुं.) एक प्रकार की सोमलता।

दूर्वण्टका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की ईंट

जो यज्ञ के काम में आती है।

दूलन—(हि. पुं.) देखें 'दौलन'।

दूलह—(हि. पुं.) दुलहा, पति, स्वामी।

दूलाञ्ज—(सं. वि.) जो कठिनाई से मारा

जा सके।

दूलिका—(सं. स्त्री.) नील का पौधा।

दूली—(सं. स्त्री.) देखें 'दूलिका'।

दूलहा—(हि. पुं.) देखें 'दूलह'।

दूवा—(हि. पुं.) आशीर्वाद।

दूव्य—(सं. पुं.) तम्बू।

दूषक—(सं. वि.) दोषोत्पादक, दोष लगाने-

वाला, वह पदार्थ जो दोष या विकार

उत्पन्न करे; (पुं.) एक प्रकार का घान।

दूषण—(सं. पुं.) दोष लगाने की क्रिया या

भाव, अवगुण, रावण के एक भाई का

नाम; (वि.) दोष उत्पन्न करनेवाला।

दूषणारि—(सं. पुं.) श्रीरामचन्द्र जिन्होंने

दूषण को मारा था।

दूषणीय—(सं. वि.) दोष लगाने योग्य,

जो अवगुण का पात्र हो।

दूषना—(हि. क्रि. स.) कलंक लगाना, ऐव

लगाना।

दूषयिता—(सं. वि.) दोष लगानेवाला।

दूषि—(सं. स्त्री.) आँख का मैल।

दूषिका—(सं. स्त्री.) नेत्र का मल, चित्र

कार की कूँची; (वि. स्त्री.) दोष

लगानेवाली।

दूषित—(सं. वि.) दोषयुक्त, जिसमें विकार हो।

दूषिता—(सं. स्त्री.) वह कन्या जिसमें

कोई दोष हो या लगाया गया हो।

दूषी—(सं. स्त्री.) आँख का मैल।

दूषीविष—(सं. पुं.) शरीर में एक

प्रकार का विष जो पोषक वातुओं

को दूषित करता है।

दूष्य—(सं. वि.) दूषणीय, दोष लगाने

योग्य, निन्दा करने योग्य, विकार या

हानि पहुँचानेवाला, नीच, तुच्छ; (पुं.)

कपड़ा, तम्बू, पीव।

दूष्या—(सं. स्त्री.) हाथी वाँधने का रस्सा।

दूष्युदर—(सं. पुं.) पेट का एक रोग।

दूषना—(हि. क्रि. स.) देखें 'दूषना'।

दूसर—(हि. वि.) देखें 'दूसरा'।

दूसरा—(हि. वि.) द्वितीय, अन्य, अपर,

और, गैर।

दूहना—(हि. क्रि. स.) देखें 'दुहना'।

दुहनी—(हि. स्त्री.) देखें 'दोहनी'।

दूहा—(हि. पुं.) देखें 'दोहा'।

दूक्—(सं. पुं.) छिद्र, छेद, नेत्र।

दूक्कर्ण—(सं. पुं.) सर्प, साँप।

दूक्काण—(सं. पुं.) ज्योतिष के अनुसार

एक राशि का तीसरा भाग जो दस अंशों

का होता है।

दूक्क्षेप—(सं. पुं.) दृष्टिपात, अवलोकन।

दूक्पथ—(सं. पुं.) दृष्टि का मार्ग, दृष्टि

की पहुँच।

दूक्पात—(सं. पुं.) देखें 'दूक्क्षेप', अवलोकन।

दूक्प्रिया—(सं. स्त्री.) शोभा, सुन्दरता।

दूक्शक्ति—(सं. स्त्री.) प्रकाश, रूप, चैतन्य,

आत्मा।

दूक्श्रुति—(सं. पुं.) सर्प, साँप, देखें 'दूक्कर्ण'।

दूग्चल—(सं. पुं.) आँख की पलक।

दूग—(हि. पुं.) दृष्टि, देखने की शक्ति,

आँख, दो की संख्या।

दूग्ध्यक्ष—(सं. पुं.) नेत्र के अधिष्ठाता

देवता सूर्य।

दूग्गणित—(सं. पुं.) ग्रहों के वेध से संबद्ध

गणित।

दूग्गति—(सं. स्त्री.) चक्षुगति, दृष्टि की

पहुँच।

दूग्गोचर—(सं. वि.) जो आँखों से दिखाई पड़े।

दूग्भवित—(सं. स्त्री.) प्रेम-दृष्टि।

दूग्भू—(सं. स्त्री.) सूर्य, वज्र, सर्प।

दूग्विष—(सं. पुं.) एक प्रकार का सर्प

जिसकी आँखों में विष रहता है।

दूग्वृत्त—(सं. पुं.) क्षितिज।

दृङ्मंडल-(सं. पुं.) दृग्वृत् ।
 दृढ-(सं. वि.) अक्षिणिल, जो ढीला न हो, स्थूल, मोटा, हृष्ट-पुष्ट, बलवान्, स्थायी, पक्का, कठिन, निडर, ढीठ, जो विचलित न हो, निश्चित, कड़ा, ठोस; (पुं.) लोहा, विष्णु, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम, तेरहवें मनु, सेमर का वृक्ष, हीरा, गणित में वह अंक जो किसी दूसरे अंक से पूरा-पूरा भाग न हो सके; -कंटक-(पुं.) खजूर का पेड़, अखरोट का वृक्ष; -कांड-(पुं.) वांस, रोहिण नामक घास; -कारी-(वि.) पुष्ट करनेवाला; -क्षत्र-(पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; -गर्भ-(पुं.) हीरक, हीरा; -गात्रिका-(स्त्री.) राव, खांड; -गंधि-(पुं.) वांस; (वि.) जिसको गांठें पुष्ट हों; -ग्राही-(वि.) दृढ़ रूप से ग्रहण करनेवाला; -च्छद-(पुं.) ताड़ का वृक्ष; -च्युत-(पुं.) अनास्त्य मुनि के एक पुत्र का नाम; -तक्ष-(पुं.) धव का वृक्ष; -ता-(स्त्री.) दृढत्व, स्थिरता, पुष्टता; -तृण-(पुं.) मूँज नाम की घास; -त्व-(पुं.) दृढता; -त्वच्-(वि.) जिसकी त्वचा या छाल कड़ी हो; (पुं.) ज्वार का पौधा, मूँज नामक घास; -दंशक-(पुं.) घड़ियाल; -धन-(पुं.) शाक्यमुनि, बुद्ध; -धन्वा-(पुं.) एक पुरुवंशी राजा का नाम; -धन्वी-(वि.) जिसका धनुष बड़ा और पुष्ट हो; -धुर-(वि.) जो बोज़ ढोने में समर्थ हो; -नाभ-(पुं.) एक मन्त्र जो माया-अस्त्र को रोक सकता है, (विश्वा मित्र ने यह मन्त्र रामचन्द्र को बतलाया था); -निश्चय-(वि.) वह जो अपने संकल्प पर दृढ़ रहे; -नीर-(पुं.) नारियल का फल जिसके भीतर का पानी धीरे-धीरे ठोस हो जाता है; -नेत्र-(पुं.) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम; -नेमि-(पुं.) वह रथ जिसका घुरा पुष्ट हो; -पत्र-(पुं.) मूँज की घास; (वि.) पुष्ट पत्तोंवाला; -पद-(पुं.) तैईस मात्राओं के एक छन्द का नाम; -प्रतिज्ञ-(वि.) जो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे; -पाद-(पुं.) ब्रह्मा; (वि.) जो अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहे; -पादी-(स्त्री.) भुंइआमला; -पृच्छक-(पुं.) कच्छप, कछुआ; -प्ररोह-(पुं.) बरगद का वृक्ष; -फल-(पुं.) नारियल; -बंघिनी-(स्त्री.)

अनन्तमूल की लता; -वालुक-(पुं.) मुसव्वर; -भार्गव-(पुं.) हीरक, वज्र हीरा; -भूमि-(स्त्री.) योग-शास्त्र के अनुसार चित्त को एकाग्र और स्थिर करने का एक अम्यास; -मुष्टि-(वि.) कृपण, कंजूस, मुट्ठी से कसकर पकड़नेवाला; -मूल-(पुं.) नारिकेल, नारियल; -रंगा-(स्त्री.) स्फटी, फिटकरी; -रजा-(स्त्री.) प्रौढ़ या युवा स्त्री; -रथ-(पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; -लता-(स्त्री.) पाताल गारुडी नामक लता; -लोम-(पुं.) शूकर, सुअर; (वि.) कड़े रोयोंवाला; -वर्म-(वि.) जिसका कवच बहुत पुष्ट हो, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; -बलकल-(वि.) कड़ी छालवाला; (पुं.) सुपारी का पेड़; -बल्ल-(पुं.) मूँज नामक घास; -बीज-(पुं.) बेर, बबूल, नारियल; (वि.) जिसका बीज कड़ा हो; -वृक्ष-(पुं.) नारियल; -वेधन-(पुं.) दृढता के साथ छेदने की क्रिया; -वत-(वि.) अपने संकल्प पर दृढ़ रहनेवाला; -शक्ति-(वि.) जिसको बहुत बल हो; -संध-(वि.) अपनी प्रतिज्ञा का पक्का; (पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; -संधि-(वि.) निश्छिद्र, बिना छेद का; -सूत्रिका-(स्त्री.) मुरां नामक औषधि; -स्कंध-(पुं.) खिरनी का पेड़; (वि.) जिसका कंवा पुष्ट हो; -स्थिति-(पुं.) नारियल का पेड़; -हस्त-(पुं.) शस्त्र चलाने में जिसका हाथ पक्का हो ।
 दृढांग-(सं. वि.) जिसके अंग पुष्ट हों, हट्टा-कट्टा ।
 दृढ़ा-(सं. स्त्री.) मूसली ।
 दृढ़ाई-(हिं. स्त्री.) दृढता ।
 दृढ़ाना-(हिं. क्रि. अ., स.) दृढ़ करना, पक्का करना, स्थिर या पक्का होना ।
 दृढ़ायु-(सं. पुं.) एक पौराणिक राजा का नाम जो उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे ।
 दृढ़ायुध-(सं. वि.) जो शस्त्र चलाने में निपुण हो; (पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।
 दृत्-(सं. वि.) सम्मानित, आदर किया हुआ, विदीर्ण, फाड़ा हुआ ।
 दृता-(सं. स्त्री.) जीरक, जीरा ।
 दृति-(सं. स्त्री.) खाल का बना हुआ पात्र, मछली, गाय के गले के नीचे का झूलता हुआ मांस, मेघ, बादल, रोमयुक्त चमड़ा; -हरि-(पुं.) कुकुर, कुत्ता; -हार-(पुं.) मशक ढोनेवाला ।

दृत्य-(सं. वि.) आदरणीय ।
 दृप्त-(सं. वि.) प्रबल, प्रचण्ड, घमंडी ।
 दृग्घ-(सं. वि.) मयमीत, डरा हुआ ।
 दृशदृती-(सं. स्त्री.) कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत एक नदी जो ब्रह्मावर्त की सीमा पर थी, कात्यायनी ।
 दृशा-(सं. स्त्री.) चक्षु, आँख ।
 दृशाक-(सं. वि.) दर्शनीय, देखने योग्य ।
 दृशान-(सं. पुं.) लोकपाल, आचार्य, गुरु, ब्राह्मण, प्रकाश; (वि.) जो दिखाई पड़ता हो ।
 दृशि-(सं. स्त्री.) चक्षु, नेत्र ।
 दृशोन्य-(सं. वि.) दर्शनीय, देखने योग्य ।
 दृशोपम-(सं. पुं.) सफेद कमल ।
 दृश-(सं. पुं.) चक्षु, नेत्र, आँख, ज्ञान, दर्शन, देखना, दृष्टि, दो-की संख्या; (वि.) (समस्तपदों में) देखने या दिखलानेवाला ।
 दृश्य-(सं. वि.) दर्शनीय, जो देखने योग्य हो, जो देखने में आ सके, जानने योग्य, मनोहर, सुन्दर; (पुं.) आँखों के सामने का पदार्थ, देखने की वस्तु, आँख के सामने होनेवाला मनोरंजक व्यापार, अमिनय द्वारा दर्शकों को दिखाया जानेवाला रूपक, गणित में ज्ञात राशि ।
 दृश्यकाव्य-(सं. पुं.) वह काव्य जो नाट्य-शाला में नटी द्वारा दिखलाया जाता है ।
 दृश्यमान-(सं. वि.) जो दिखाई पड़ता हो, सुन्दर, चमकीला ।
 दृश्यादृश्य-(सं. वि.) भौतिक और आध्यात्मिक ।
 दृश्यन्-(सं. वि.) दर्शक, देखनेवाला ।
 दृषद्-(सं. स्त्री.) पहाड़ की चट्टान, पत्थर, सिल ।
 दृषदृत्-(सं. वि.) शिलायुक्त ।
 दृषदृती-(सं. स्त्री.) घाघरा नदी का प्राचीन नाम ।
 दृष्ट-(सं. वि.) अवलोकित, देखा हुआ, जाना हुआ, गोचर, प्रगट, प्रत्यक्ष; (पुं.) साक्षात्कार, प्रत्यक्ष प्रमाण; -कर्म-(पुं.) देखा या परीक्षा किया हुआ काम; -कूट-(पुं.) प्रहेलिका, पहेली, ऐसी कविता जिसका अर्थ वाच्यार्थ से न समझा जा सके परन्तु लक्षणा से ज्ञात हो; -त्व-(पुं.) दृष्टि का भाव, देखने का कार्य; -दोष-(पुं.) मनुष्य का वह दोष जो राग, लोभ आदि से उत्पन्न हो; -नष्ट-(वि.) जो दर्शनमात्र से नष्ट हो जाय; -पृष्ट-(वि.) युद्ध से भाग जानेवाला; -प्रत्यय-(पुं.) देख-कर किया जानेवाला विद्वान्; -जो-(स्त्री.) प्रौढ़ा स्त्री; -वृत्-(वि.)

लौकिक, सांसारिक, प्रत्यक्ष-तुल्य;
 -वाद- (पुं.) केवल प्रत्यक्ष को ही मानने-
 वाला दार्शनिक सिद्धान्त; -बोध- (वि.)
 जिसके बल की परीक्षा की गई हो;
 -सार- (वि.) जिसका बल देखा गया हो।
 दृष्टांत- (सं. पुं.) किसी विषय को स्पष्ट
 रूप से बतलाने, समझाने अथवा सिद्ध करने
 के लिए किसी जाने हुए सदृश विषय का
 उल्लेख, उदाहरण, शास्त्र, वह अर्थालंकार
 जिसमें उपमान और उपमेय का
 तुलनात्मक तारतम्य रहता है।
 दृष्टांतित- (सं. वि.) जो दृष्टांत के रूप
 में दिया गया हो।
 दृष्टादृष्ट- (सं. वि.) जिसने अदृष्ट को
 भी देखा हो।
 दृष्टार्थ- (सं. पुं.) जिसने जीवन का अर्थ
 समझा हो, जिसका अर्थ स्पष्ट हो; (पुं.)
 वह शब्द जिसके सुनने से सुननेवाले
 को ऐसे अर्थ का बोध हो जिसका
 प्रत्यक्षानुभव संसार में होता है।
 दृष्टि- (सं. स्त्री.) दर्शन, देखने की वृत्ति,
 अवलोकन, चक्षुः प्रकाश, दृक्पथ,
 आँख की ज्योति, कृपा, नजर, ध्यान,
 अनुमान, विचार, आशय, उद्देश्य;
 (मुहा.) -जुड़ना-साक्षात्कार होना;
 -जोड़ना-आँख मिलाना; -रखना-
 देख-रेख में रखना; -कूट- (पुं.) देखें
 'दृष्टकूट'; -कृत्- (वि.) दर्शक, देखने-
 वाला; -क्षेप- (पुं.) अवलोकन, देखना;
 -गत- (पुं.) नेत्र का विषय; (वि.) जो
 दिखाई पड़े; -गुण- (पुं.) नेत्र का गुण,
 तीर आदि का लक्ष्य; -गोचर- (वि.)
 नेत्र द्वारा जिसका बोध हो, जो दिखाई
 पड़ता हो; -निपात- (पुं.) अवलोकन,
 नेत्रों से दिखाई पड़ना; -पथ- (पुं.) दृष्टि
 का पथ, दृष्टि की पहुँच; -पात- (पुं.)
 अवलोकन, ताकना, देखना; -पूत-
 (वि.) जिसको देखने से आँखें पवित्र
 हों; -प्रदा- (स्त्री.) नेत्र का एक रोग;
 -फल- (पुं.) ज्योतिष के अनुसार वह
 फल जो एक राशि में स्थित ग्रह दूसरी
 राशि में स्थित ग्रह के दृष्टि-स्थान में
 हो; -बंध- (पुं.) इन्द्रजाल, जादू,
 हस्तलाघव; -बंधु- (पुं.) खद्योत, जुगनू;
 -मंडल- (पुं.) दर्शन; -मत्- (वि.) जिसको
 दृष्टि हो; -योनि- (पुं.) क्लीव, नपुंसक;
 -रोग- (पुं.) नेत्र रोग; -रोध- (पुं.)
 दृष्टि पहुँचने में रुकावट; -वंत- (हिं. वि.)
 दृष्टिवाला, ज्ञानी; -वर्त्म- (पुं.) आँख
 के पलक; -वाद- (पुं.) वह सिद्धान्त

जिसके अनुसार प्रत्यक्ष ही सत्य
 माना जाता है; -विभ्रम- (पुं.)
 देखने में भ्रम होना; -विज्ञान- (पुं.)
 नेत्र रोग चिकित्सा की विद्या; -विष-
 (पुं.) एक प्रकार का सर्प जिसके नेत्रों
 में विष रहता है; -संधि- (स्त्री.) आँख
 का कोना; -स्थान- (पुं.) फलित ज्योतिष
 के अनुसार ग्रहों का अवलोकन स्थान।
 दृष्या- (सं. स्त्री.) हाथी की पीठ पर
 का ओहार।
 दे- (हिं. स्त्री.) स्त्रियों के लिए प्रयोग
 करने का एक आदरसूचक शब्द, देवी।
 देई- (हिं. स्त्री.) स्त्रियों के लिए एक
 आदरसूचक शब्द, देवी।
 देख, देखन- (हिं. स्त्री.) देखने की क्रिया
 या भाव, अवलोकन।
 देखनहारा- (हिं. वि.) देखनेवाला।
 देखना- (हिं. क्रि. स.) अवलोकन करना,
 निरीक्षण करना, अन्वेषण करना,
 ढूँढ़ना, पता लगाना, संशोधित करना,
 शोधना, अनुभव करना, सोचना,
 समझना, परीक्षा करना, प्रबंध करना,
 परखना, ताकते रहना, विचारना, जाँच
 करना, ठीक करना, भोगना, पढ़ना;
 -सुनना-पता लगाना; देखने में-साधारण
 व्यवहार में; देखते-देखते- (अव्य.) आँखों
 के सामन, तुरत; (मुहा.) देखते रह
 जाना-अचम में पड़ना; देखा जायगा-
 दुबारा विचार किया जायगा।
 देख-भाल- (हिं. स्त्री.) संरक्षण, निरीक्षण,
 जाँच-पड़ताल।
 देखराना, देखरावना- (हिं. क्रि. स.) देखें
 'दिखलाना'।
 देख-रेख- (हिं. स्त्री.) निरीक्षण, देखभाल।
 देखाऊ- (हिं. वि.) जो केवल देखने के
 लिए हो, झूठी तड़क-भड़कवाला,
 दिखौवा, वनावटी।
 देखादेखी- (हिं. स्त्री.) साक्षात्कार, दर्शन;
 (अव्य.) दूसरों को करते हुए देखकर।
 देखाना- (हिं. क्रि. स.) देखें 'दिखाना'।
 देखाभाली- (हिं. स्त्री.) देखें 'दिखमाल'।
 देखाव- (हिं. पुं.) रूप-रंग दिखाने की
 क्रिया या भाव, वनावट, दृष्टि की सीमा,
 तड़क-भड़क, दिखावट, ठाटवाट।
 देखावना- (हिं. क्रि. स.) देखें 'दिखाना'।
 देखौवा- (हिं. वि.) देखें 'देखाऊ'।
 देग- (हिं. पुं.) एक प्रकार का वाज पक्षी;
 (फा. पुं.) खाना पकाने का बड़ा हंडा।
 देगचा- (फा. पुं.) छोटा देग।
 देगची- (फा. स्त्री.) बहुत छोटा देग।

देवीप्यमान- (सं. वि.) जाज्वल्यमान,
 चमकता हुआ, अत्यन्त प्रकाशयुक्त।
 देन- (हिं. स्त्री.) देने की क्रिया या भाव,
 दान की हुई वस्तु; (अ. पुं.) ऋण।
 देनदार- (हिं. पुं.) ऋणी, दानी।
 देनदारी- (हिं. स्त्री.) ऋणी होने की अवस्था।
 देन-लेन- (हिं. पुं.) महाजनी का व्यवसाय।
 देनहारा- (हिं. वि.) देनेवाला।
 देना- (हिं. क्रि. स.) किसी वस्तु को अपने
 अधिकार से हटाकर दूसरे के अधिकार में
 अर्पित करना, प्रदान करना, सौंपना, उत्पन्न
 करना, निकालना, अनुभव कराना, भोगाना,
 मारना, हाथ-पर रखना, पास रखना,
 लगाना, डालना, बन्द करना; (पुं.) ऋण।
 देमान- (हिं. पुं.) देखें 'दीवान'।
 देय- (सं. वि.) दातव्य, देने योग्य।
 देर- (फा. स्त्री.) अधिक समय, विलंब,
 समय, वक्त।
 देरी- (हिं. स्त्री.) देखें 'देर'।
 देव- (सं. पुं.) देवता, अमर, सुर, राजा,
 भेध, पूज्य व्यक्ति, पारद, पारा, ब्राह्मणों
 की एक उपाधि, देवदार, तेजोमय
 व्यक्ति, ज्ञानेन्द्रिय, ऋत्विक्।
 देव अंशी- (हिं. वि.) जो देवता का अंश
 लेकर उत्पन्न हो।
 देवऋण- (सं. पुं.) यज्ञादि कर्म जिसके
 करने से मनुष्य देवताओं के ऋण से
 मुक्त होता है।
 देवऋषि- (सं. पुं.) देवलोक में रहनेवाले
 नारद, अत्रि, मरीचि आदि ऋषि।
 देवक- (सं. पुं.) श्रीकृष्ण के नाना का
 नाम जो यदुवंशीय राजा थे।
 देवकन्या- (सं. स्त्री.) देवता की स्त्री, देवी।
 देवकपास- (हिं. स्त्री.) नरमा, मनवाँ।
 देवकर्म- (सं. पुं.) सुगन्धित द्रव्य विशेष।
 देवकर्म- (सं. पुं.) वह कर्म जो देवता को
 प्रसन्न करने के लिए किया जाय।
 देवकली- (सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम।
 देवकाँड़र- (हिं. स्त्री.) एक प्रकार का छोटा
 पौधा जो औषधी में प्रयुक्त होता है।
 देवकार्य- (सं. पुं.) देवताओं को प्रसन्न
 करने के लिए किया जानेवाला कर्म।
 देवकाष्ठ- (सं. पुं.) देवदार।
 देवकिरि- (सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम।
 देवकिल्बिष- (सं. पुं.) देवता द्वारा किया
 हुआ अनिष्ट।
 देवकी- (सं. स्त्री.) वसुदेव की स्त्री,
 श्रीकृष्ण की माता।
 देवकीनंदन- (सं. पुं.) श्रीकृष्ण।
 देवकीय- (सं. वि.) देवता-संबंधी, देवता का।

देवकुंड—(सं. पुं.) देवस्थान के निकट का जलाशय ।
 देवकुल—(सं. स्त्री.) देवताओं का वंश, देवता-समूह ।
 देवकुल्या—(सं. स्त्री.) गंगा नदी ।
 देवकुसुम—(सं. पुं.) लवंग, लौंग ।
 देवकूट—(सं. पुं.) वसिष्ठ के आश्रम के पास का एक पवित्र आश्रम ।
 देवकैसर—(सं. पुं.) एक प्रकार का पुष्पाग ।
 देवक्षत्र—(सं. पुं.) यज्ञ ।
 देवक्षेत्र—(सं. पुं.) पुण्य स्थान, स्वर्ग ।
 देवखात—(सं. पुं.) प्राकृतिक जलाशय, सरोवर, ताल, गुहा ।
 देवखातक—(सं. पुं.) गुहा, कन्दरा ।
 देवगंधर्व—(सं. पुं.) वे गन्धर्व जो देवताओं के विनोदार्थ गाते हैं ।
 देवगणिका—(सं. स्त्री.) स्वर्ग की वेश्या, अप्सरा ।
 देवगण्डी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की ऊख ।
 देवगण—(सं. पुं.) देवताओं का समूह, किसी देवता का अनुचर ।
 देवगति—(सं. स्त्री.) मरने के बाद देवयोनि की प्राप्ति, स्वर्ग-लाभ ।
 देवगर्भ—(सं. पुं.) वह मनुष्य जो देवता के वीर्य से उत्पन्न हुआ हो ।
 देवगांधारी—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 देवगायक, देवगायन—(सं. पुं.) गन्धर्व ।
 देवगिरा—(सं. स्त्री.) देववाणी, संस्कृत ।
 देवगिरि—(सं. पुं.) रैवतक पर्वत का नाम जो गुजरात में है; (स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 देवगुरु—(सं. पुं.) देवताओं के गुरु बृहस्पति ।
 देवगुही—(सं. स्त्री.) सरस्वती ।
 देवगुह्य—(सं. पुं.) जो विषय देवताओं को भी गुप्त हो ।
 देवगृह—(सं. पुं.) गया के एक पुण्य स्थान का नाम; (पुं.) देवालय, मन्दिर ।
 देवग्रह—(सं. पुं.) वे मनुष्य जो जागते-सोते देवताओं का ध्यान करते हैं ।
 देवधन—(हि. पुं.) बगीचों में लगाने का एक छायादार वृक्ष ।
 देवचर्या—(सं. स्त्री.) देवताओं के निमित्त हवन आदि ।
 देवचाली—(सं. पुं.) इन्द्रताल का एक भेद ।
 देवचिकित्सक—(सं. पुं.) देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमार, दो की संख्या ।
 देवच्छन्द—(सं. पुं.) एक प्रकार का हार ।
 देवज—(सं. वि.) देवता से उत्पन्न ।
 देवजन्म—(सं. वि.) देवताओं द्वारा स्थाया

हुआ; (पुं.) एक सुगन्धित घास ।
 देवजन—(सं. पुं.) देवताओं के सदृश मनुष्य, गन्धर्व ।
 देवजनविद्या—(सं. स्त्री.) गन्धर्व-विद्या, नाच-गाना ।
 देवजाति—(सं. स्त्री.) देवगण ।
 देवजामि—(सं. स्त्री.) देवताओं की स्त्री ।
 देवजुष्ट—(सं. वि.) देवताओं को चढ़ाया हुआ ।
 देवट—(सं. पुं.) शिल्पी, कारीगर ।
 देवठान—(हि. पुं.) कात्तिक सुदी एकादशी । (जिस दिन विष्णु भगवान् सोकर उठते हैं ।)
 देवढी—(हि. स्त्री.) देखें 'ड्योढी' ।
 देवतर—(सं. वि.) बहुत चमकीला ।
 देवतर्ष—(सं. पुं.) स्वर्ग के पाँच वृक्ष, यथा-मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्पतरु और हरिचन्दन ।
 देवतर्षण—(सं. पुं.) देवताओं का नाम लेकर तर्षण करने की क्रिया ।
 देवना—(सं. स्त्री.) स्वर्ग में रहनेवाले देव, सुर, निर्जर ।
 देवताकुसुम—(सं. पुं.) लवंग, लौंग ।
 देवतागार—(सं. पुं.) देवताओं का घर ।
 देवतागृह—(सं. पुं.) देवालय, ठाकुर-द्वारा ।
 देवताङ्ग—(सं. पुं.) एक प्रकार का बड़ा वृक्ष, बंदाल ।
 देवताङ्गी—(हि. स्त्री.) तुरई, तरोई ।
 देवतात—(सं. पुं.) देवताओं के पिता कश्यप ।
 देवताधिप—(सं. पुं.) देवताओं के अधिपति, इन्द्र ।
 देवताध्यक्ष—(सं. पुं.) सामवेद का एक ब्राह्मण ।
 देवतानुक्रम—(सं. पुं.) देवताओं का उद्देश्य ।
 देवतामणि—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 देवतामय—(सं. वि.) देवतास्वरूप ।
 देवतायन—(सं. पुं.) देवगृह, ठाकुरद्वारा ।
 देवतालय—(सं. पुं.) देवतायन ।
 देवतावेश्म—(सं. पुं.) देवतालय ।
 देवतीर्थ—(सं. पुं.) अँगूठे को छोड़कर अन्य अँगुलियों का अग्र भाग ।
 देवत्त—(सं. वि.) देवता को अर्पण किया जानेवाला ।
 देवत्य—(सं. वि.) देवता-संबन्धी ।
 देवत्रयी—(सं. पुं.) ब्रह्मा, विष्णु और महेश-इन तीनों देवताओं का समुदाय ।
 देवत्व—(सं. पुं.) देवता का भाव, देवता का धर्म ।
 देवद्वन्द्व—(सं. पुं.) रोहित घास ।
 देवदत्त—(सं. पुं.) वह सम्पत्ति जो देवताओं के निमित्त दान दी गई हो,

अर्जुन के एक शंख का नाम, शुद्धोदन के भतीजे का नाम; (वि.) जो देवताओं द्वारा दिया गया हो, जो देवता के निमित्त अर्पित किया गया हो ।
 देवदर्श—(सं. वि.) देवता का दर्शन करने-वाला; (पुं.) एक ऋषि का नाम ।
 देवदर्शन—(सं. पुं.) देवता का दर्शन ।
 देवदानी—(सं. स्त्री.) बड़ी तरोई ।
 देवदार(रु)—(हि. पुं.) एक बहुत ऊँचा वृक्ष जो बहुत दीर्घायु होता है, (इसके हीर से तारपीन की तरह का तेल निकलता है ।)
 देवदालिका—(सं. स्त्री.) महाकाल नामक वृक्ष ।
 देवदासी—(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी, मन्दिरों की दासी, विजौरा नीवू ।
 देवदीप—(सं. पुं.) वह दीपक जो देवता के निमित्त जलाया गया हो, चक्षु, आँख ।
 देवदुंडुभि—(सं. पुं.) देवताओं का बाजा, लाल या काली तुलसी ।
 देवदूत—(सं. पुं.) देवताओं का दूत, अग्नि ।
 देवदूती—(सं. स्त्री.) अप्सरा, विजौरा नीवू ।
 देवदेव—(सं. पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश ।
 देवहूम—(सं. पुं.) स्वर्ग का वृक्ष, देखें 'देवदार' ।
 देवद्रोणी—(सं. वि.) देवयात्रा, वह अर्घा जिसमें शिवलिंग स्थापित किया जाता है ।
 देवधन—(सं. पुं.) देवता के निमित्त दिया हुआ धन ।
 देवधान्य—(सं. पुं.) ज्वार ।
 देवधाम—(सं. पुं.) देवस्थान, तीर्थस्थान ।
 देवधुनी—(सं. स्त्री.) गंगा नदी ।
 देवधूप—(सं. पुं.) गुग्गुलु ।
 देवन्दी—(सं. पुं.) इन्द्र के द्वारपाल का नाम ।
 देवन—(सं. पुं.) व्यवहार, फ्रीडा, खेल, श्रुति, कान्ति, गति, जुआ, पया, कमल ।
 देवनदी—(सं. स्त्री.) गंगा, सरस्वती और द्रुपद्वती ।
 देवनल—(सं. पुं.) एक प्रकार का नरकट ।
 देवना—(सं. स्त्री.) फ्रीडा, खेल, सेवा, टहल ।
 देवनागर, देवनागरी—(सं. पुं.) भारतवर्ष की वह प्रचलन लिपि जिसमें संस्कृत, हिन्दी, मराठी आदि भाषाएँ लिखी जाती हैं, यह प्राचीन ब्राह्मी लिपि का एक रूप है ।
 देवनाय—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 देवनायक—(सं. पुं.) देवयोनि, विद्यावर ।
 देवनायक—(सं. पुं.) सुरपति, इन्द्र ।
 देवनाल—(सं. पुं.) बड़ा नरकट ।
 देवनिकाय—(सं. पुं.) देवस्थान, स्वर्ग ।
 देवनिम्नगा—(हि. स्त्री.) गंगा ।
 देवनिमित्त—(सं. वि.) देवता का बनाया

हुआ; (स्त्री.) गुरुच ।
 देवनीय—(सं. पुं.) सत्रह चरणों का एक मन्त्र ।
 देवपंचरात्र—(सं. पुं.) पाँच दिनों में होने वाला एक प्रकार का यज्ञ ।
 देवपति—(सं. पुं.) देवताओं के स्वामी इन्द्र ।
 देवपत्नी—(सं. स्त्री.) देवताओं की स्त्री ।
 देवपथ—(सं. पुं.) देवताओं का पथ, आकाश ।
 देवपद्मिनी—(सं. स्त्री.) आकाश में वहनेवाली गंगा ।
 देवपर—(सं. पुं.) वह जो आपत्ति पड़ने पर श्रद्धा से देवता के भरोसे बैठा रहे ।
 देवपशु—(सं. पुं.) वह पशु जो देवता के नाम पर छोड़ा गया हो, देवता का उपासक ।
 देवपात्र—(सं. पुं.) अग्नि, आग ।
 देवपान—(सं. पुं.) सोमपान करने का पात्र ।
 देवपालित—(सं. वि.) वह देश जहाँ वर्षा के जल से ही खेती होती है ।
 देवपीयू—(सं. पुं.) देवताओं से द्वेष करने वाले असुर ।
 देवपुत्र—(सं. पुं.) देवकुमार, इलायची ।
 देवपुर—(सं. पुं.) देवताओं की नगरी, अमरावती ।
 देवपुरी—(सं. स्त्री.) अमरावती ।
 देवपुष्प—(सं. पुं.) लवंग, लौंग ।
 देवपूजा—(सं. स्त्री.) देवताओं का पूजन ।
 देवपूज्य—(सं. पुं.) देवताओं का पूज्य, बृहस्पति ।
 देवप्रतिष्ठति, देवप्रतिमा—(सं. स्त्री.) देवता की प्रतिमा ।
 देवप्रयाग—(हिं. पुं.) टेहरी राज्य के अन्तर्गत एक पुण्य स्थान ।
 देवप्रश्न—(सं. पुं.) शुभाशुभ-संबंधी प्रश्न ।
 देवप्रसूत—(सं. वि.) जो देवता से उत्पन्न हुआ हो ।
 देवप्रिय—(सं. पुं.) पीली भँगरैया, अगस्त्य का वृक्ष, नागवल्ली लता, सम्राट् अशोक की एक उपाधि ।
 देववंद—(हिं. पुं.) घोड़े की छाती पर की एक शुभ मंत्र ।
 देवबंधु—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
 देवबंधू—(सं. स्त्री.) अप्सरा ।
 देवबला—(सं. स्त्री.) सहदेई नामक बूटी ।
 देवबलि—(सं. पुं.) देवता के निमित्त बलि या उपहार ।
 देवबाहु—(सं. पुं.) एक यदुवंशीय राजा का नाम ।
 देवब्रह्म—(सं. पुं.) नारद ऋषि का एक नाम ।
 देवब्राह्मण—(सं. पुं.) वह ब्राह्मण जो

किसी देवता की पूजा करके अपनी जीविका चलाता है ।
 देवभवन—(सं. पुं.) स्वर्ग, पीपल का वृक्ष, देवालय ।
 देवभाग—(सं. पुं.) किसी सम्पत्ति या वस्तु का वह अंश जो देवता के लिए निकाला जाता हो, देवताओं का भाग ।
 देवभाषा—(सं. स्त्री.) संस्कृत भाषा ।
 देवभिषक्—(सं. पुं.) अश्विनीकुमार ।
 देवभीति—(सं. स्त्री.) देवताओं का भय ।
 देवभू—(सं. पुं.) देवता, स्वर्ग ।
 देवभूति—(सं. स्त्री.) देवताओं का ऐश्वर्य, मन्दाकिनी ।
 देवभूमि—(सं. स्त्री.) देवताओं की प्रिय भूमि, स्वर्ग ।
 देवभूत—(सं. पुं.) विष्णु, इन्द्र ।
 देवभोज्य—(सं. पुं.) अमृत ।
 देवमंजर—(सं. पुं.) कौस्तुभमणि ।
 देवमंदिर—(सं. पुं.) जिस घर में किसी देवता की मूर्ति स्थापित हो, देवालय, ठाकुरद्वारा ।
 देवमणि—(सं. पुं.) कौस्तुभमणि, सूर्य ।
 देवमत—(सं. वि.) देवताओं की सम्मति, एक ऋषि का नाम ।
 देवमर्त्या—(सं. स्त्री.) महामेदा ।
 देवमाता—(सं. स्त्री.) देवताओं की माता, अदिति ।
 देवमादन—(सं. पुं.) वह सोम जिसको पीकर देवता मोहित हो जाते हैं ।
 देवमान—(सं. पुं.) काल की गुणना में देवताओं का मान, यथा—एक सौर वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है ।
 देवमानक—(सं. पुं.) कौस्तुभमणि ।
 देवमाया—(सं. स्त्री.) परमेश्वर की माया जो अविद्या के रूप में सांसारिक बन्धनों का कारण होती है ।
 देवमार्ग—(सं. पुं.) देख 'देवपथ' ।
 देवमास—(सं. पुं.) गर्भ का आठवाँ महीना, देवमानानुसार तीस वर्ष का काल ।
 देवमित्र—(सं. पुं.) शाकल्य ऋषि का एक नाम, अजून वृक्ष, मदार का पेड़ ।
 देवमुनि—(सं. पुं.) नारदादि ऋषि ।
 देवयजन—(सं. पुं.) यज्ञ की वेदी, वह स्थान जहाँ यज्ञ किया जाता है, पृथ्वी ।
 देवयजी—(सं. पुं.) देवता के निमित्त यज्ञ करनेवाला ।
 देवयज्ञ—(सं. पुं.) पच यज्ञों के अन्तर्गत होम आदि कर्म ।
 देवयज्ञ्या—(सं. स्त्री.) देवताओं के निमित्त यज्ञ ।

देवयांत—(सं. पुं.) जिसने देवत्व प्राप्त किया हो, जो देवता हो गया हो ।
 देवयात्रा—(सं. स्त्री.) देवताओं की यात्रा, रथ-यात्रा ।
 देवयान—(सं. पुं.) देवताओं का विमान, शरीर से अलग होने के उपरान्त जीवात्मा के जानें के लिए दो मार्ग हैं, उनमें से वह मार्ग जिससे होता हुआ जीवात्मा ब्रह्मलोक को जाती है ।
 देवयानी—(सं. स्त्री.) दैत्यगुरु शूक्राचार्य की कन्या जो पहिले अपने पिता के शिष्य कच पर अनुरक्त हुई थी परन्तु जब असुरों ने कच को मार डाला तब उसका विवाह राजा ययाति से हुआ ।
 देवयान्व—(सं. वि.) देवताओं के तीर्थों की यात्रा करनेवाला ।
 देवयुग—(सं. पुं.) सत्य-युग ।
 देवयोनि—(सं. पुं.) देववंश जिसके अन्तर्गत—विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गृह्यक और सिद्ध हैं ।
 देवयोषा—(सं. स्त्री.) देवताओं की स्त्री ।
 देवर—(सं. पुं.) पति का छोटा भाई ।
 देवरक—(सं. पुं.) पति का छोटा भाई ।
 देवरक्षित—(सं. वि.) देवताओं द्वारा रक्षा किया हुआ ।
 देवरक्षिता—(सं. स्त्री.) देवकी की बहिन ।
 देवरथ—(सं. पुं.) सूर्य का रथ, देवताओं का रथ, विमान ।
 देवरहस्य—(सं. पुं.) देवताओं की गुप्त लीला ।
 देवरा—(हिं. पुं.) देवता, देवर ।
 देवराज—(सं. पुं.) देवताओं के राजा इन्द्र ।
 देवराज्य—(सं. पुं.) स्वर्ग ।
 देवरात—(सं. पुं.) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम, एक प्रकार का सारस ।
 देवरानी—(हिं. स्त्री.) देवर की स्त्री, पति के छोटे भाई की स्त्री, देवराज इन्द्र की रानी, शची ।
 देवराय—(हिं. पुं.) देखें 'देवराज' ।
 देवबलि—(सं. पुं.) नारद, अत्रि, मरीचि, भरद्वाज आदि ऋषि ।
 देवल—(सं. पुं.) देवताओं की पूजा करके जीविका निर्वाह करनेवाला, पुजारी, पंडा, देवर, नारद मुनि, धार्मिक पुरुष, एक स्मृति का नाम; (हिं. पुं.) देव-मन्दिर, देवालय ।
 देवलता—(सं. स्त्री.) नवमल्लिका, नेवारी लता, जीविका के लिए देवपूजन ।
 देवलोक—(सं. पुं.) स्वर्ग; भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्—ये सातों देवलोक कहलाते हैं ।

देववक्त्र—(सं. पुं.) देवताओं का मुख-स्वरूप, अग्नि ।
 देववती—(सं. स्त्री.) एक पौराणिक गन्धर्व की माता का नाम । (यह सुकेश नामक राक्षस की पत्नी थी ।)
 देववाणिनी—(सं. स्त्री.) मारद्वज मुनि की कन्या का नाम ।
 देववर्त्म—(सं. पुं.) आकाश ।
 देववर्धकि—(सं. पुं.) विश्वकर्मा ।
 देववर्ष—(सं. पुं.) एक द्वीप का नाम ।
 देववला—(सं. स्त्री.) सहदेई नामक बूटी ।
 देववल्लभ—(सं. वि.) देवताओं का प्रिय; (पुं.) केसर ।
 देववल्ली—(सं. स्त्री.) संस्कृत भाषा, आकाश-वाणी ।
 देववाणी—(सं. स्त्री.) देखें 'देववल्ली', संस्कृत भाषा ।
 देववात—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
 देववायु—(सं. पुं.) वारह्वे मनु के एक पुत्र का नाम ।
 देववाहन—(सं. पुं.) देवताओं का वाहन, अग्नि ।
 देवविद्या—(सं. स्त्री.) निरुक्त विद्या ।
 देवविहाग—(सं. पुं.) एक राग का नाम ।
 देववीति—(सं. स्त्री.) देवताओं का भक्षण ।
 देववृक्ष—(सं. पुं.) मदार का पेड़, गुग्गुलु ।
 देवव्रत—(सं. पुं.) एक प्रकार का साम-गान ।
 देवव्रती—(सं. वि., पुं.) देवता के निमित्त व्रत करनेवाला ।
 देवशत्रु—(सं. पुं.) देवताओं का शत्रु, असुर ।
 देवशमनु—(सं. पुं.) ब्राह्मण जाति की एक उपाधि ।
 देवशास्त्र—(सं. पुं.) एक संकर राग का नाम ।
 देवशिल्पी—(सं. पुं.) विश्वकर्मा ।
 देवशुनी—(सं. स्त्री.) देवलोक की कृतिया, सरमा ।
 देवशेखर—(सं. पुं.) दौने का पाँधा, देवता का मस्तक ।
 देवशेष—(सं. पुं.) अनन्त-नाग ।
 देवश्रवा—(सं. पुं.) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम, वसुदेव के भाई का नाम ।
 देवधी—(सं. पुं.) यज्ञ; (स्त्री.) देवताओं की कांति, लक्ष्मी ।
 देवश्रुत—(सं. वि.) देवताओं में प्रसिद्ध; (पुं.) ईश्वर, नारद, शुक्राचार्य के पुत्र का नाम ।
 देवश्रेणी—(सं. स्त्री.) देवताओं की पंक्ति, मूर्वा लता ।
 देवश्रेष्ठ—(सं. वि.) देवताओं में श्रेष्ठ; (पुं.) वारह्वे मनु के एक पुत्र का नाम ।

देवसख—(सं. पुं.) देवताओं का मित्र ।
 देवसखा—(सं. पुं.) उत्तर दिशा का एक पर्वत ।
 देवसत्र—(सं. पुं.) एक यज्ञ का नाम ।
 देवसत्त्व—(सं. वि.) देवताओं के समान स्वभाववाला ।
 देवसद्य—(सं. पुं.) देवस्थान, देवालय ।
 देवसदन—(सं. पुं.) देवालय, स्वर्ग ।
 देवसम—(सं. पुं.) देवालय, ठाकुरद्वारा ।
 देवसभा—(सं. स्त्री.) देवताओं का समाज, राजसभा, सुधर्मा नाम की सभा जिसको मय दानव ने बनाया था ।
 देवसम्य—(सं. पुं.) जुआड़ी ।
 देवसमाज—(सं. पुं.) सुधर्मा नाम की देव-सभा ।
 देवसरित्—(सं. स्त्री.) गंगा नदी ।
 देवसर्षप—(सं. पुं.) एक प्रकार की सरसों ।
 देवसाक—(हिं. पुं.) देखें 'देवशाक' ।
 देवसात्—(सं. वि.) देवता के निमित्त अर्पण किया हुआ ।
 देवसायुज्य—(सं. पुं.) देवत्व-प्राप्ति ।
 देवसार—(सं. पुं.) इन्द्रताल के छः भदों में से एक ।
 देवसार्वाणि—(सं. पुं.) तेरहवें मनु का नाम ।
 देवसूरि—(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध जैन आचार्य का नाम ।
 देवसृष्ट—(सं. वि.) देवताओं का बनाया हुआ ।
 देवसृष्टा—(सं. स्त्री.) मद्य, मदिरा ।
 देवसेना—(सं. स्त्री.) देवताओं का सैन्य, प्रजापति की एक कन्या जो सावित्री के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, शिशुओं का पालन करनेवाली पत्नी देवी ।
 देवसेनापति—(सं. पुं.) स्कन्द, कार्तिकेय ।
 देवस्थान—(सं. पुं.) देवताओं के रहने का स्थान, देवालय, देवमन्दिर, ठाकुरद्वारा ।
 देवस्व—(सं. पुं.) देव-प्रतिमा के लिए अर्पण की हुई संपत्ति ।
 देवहंस—(हिं. पुं.) एक प्रकार का वक्त्रक ।
 देवहरिया—(हिं. पुं.) एक प्रकार की नाव ।
 देवहृद्य—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
 देवहित—(सं. पुं.) देवताओं का हित ।
 देवहू—(सं. स्त्री.) देवताओं की पुकार, अन्न से भरी हुई गाड़ी, बायाँ कान; (वि.) देवताओं की पुकारनेवाला ।
 देवहृति—(सं. स्त्री.) स्वायंभुव मनु की एक कन्या जिसका विवाह महर्षि कर्दम से हुआ था । (सांख्यशास्त्र के कर्ता कपिल मुनि इनके पुत्र थे ।)
 देवहूय—(सं. पुं.) देवताओं और राक्षसों का युद्ध ।

देवहेति—(सं. स्त्री.) देवास्त्र ।
 देवहृद—(सं. पुं.) एक तीर्थ का नाम ।
 देवांगना—(सं. स्त्री.) देवताओं की स्त्री, अप्सरा ।
 देवांतक—(सं. पुं.) राक्षस विशेष ।
 देवांघस—(सं. पुं.) देवता का अन्न, अमृत ।
 देवा—(सं. स्त्री.) विजयसार, मूर्वा लता; (हिं. वि.) देनेवाला, ऋणी ।
 देवाकीड—(सं. पुं.) देवताओं का वगीचा ।
 देवागार—(सं. पुं.) देवताओं का स्थान, देवालय ।
 देवागारिक—(सं. वि.) देवालय में काम करनेवाला ।
 देवार्चा—(सं. स्त्री.) देवता का पूजन करनेवाली ।
 देवाजीव—(सं. वि.) पंडा, पुजारी ।
 देवाजीवी—(सं. वि.) देवताओं की पूजा करके जीविका चलानेवाला ।
 देवाट—(सं. पुं.) हरिहर क्षेत्र का नाम ।
 देवाद्विदेव—(सं. पुं.) विष्णु ।
 देवात्मा—(सं. पुं.) देवस्वरूप अश्वत्थ, पीपल ।
 देवाधिदेव—(सं. पुं.) परमेश्वर, महादेव, इन्द्र ।
 देवाधिप—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 देवान—(हिं. पुं.) देखें 'दीवान' ।
 देवानांप्रिय—(सं. पुं.) देवताओं को प्रिय, छाय, बकरा, मूख, महाराजा अशोक की उपाधि ।
 देवाना—(हिं. वि.) देखें 'दीवाना' ।
 देवानीक—(सं. पुं.) देवताओं की सेना, सगर-वंश के एक राजा का नाम ।
 देवानुचर—(सं. पुं.) देवताओं के साथ चलनवाले विद्याधर आदि ।
 देवानुयायी—(सं. पुं.) देख 'देवानुचर' ।
 देवान्न—(सं. पुं.) चर, हवि ।
 देवापि—(सं. पुं.) पुरुवंशीय राजा प्रतीप के एक पुत्र का नाम ।
 देवाभियोग—(सं. पुं.) किसी रुष्ट देवता का शरीर में प्रवेश ।
 देवायतन—(सं. पुं.) देव-मन्दिर, ठाकुर-द्वारा ।
 देवायुष—(सं. पुं.) इन्द्रधनुष जो वरसात के दिनों में आकाश में दिखाई पड़ता है ।
 देवायुस्—(सं. पुं.) देवताओं का जीवन-काल ।
 देवारण्य—(सं. पुं.) देवताओं का वगीचा ।
 देवाराधन—(सं. पुं.) देवताओं की पूजा ।
 देवारि—(सं. पुं.) देवताओं के शत्रु, असुर ।
 देवारी—(हिं. स्त्री.) देखें 'दिवाली' ।
 देवार्पण—(सं. पुं.) किसी वस्तु का दान जो देवता के निमित्त किया जाय ।

देवार्ह (सं. वि.) देवता के निमित्त दान देने योग्य ।
 देवाल- (हिं. वि.) दाता, देनेवाला ।
 देवालय- (सं. पूं.) स्वर्ग, देवगृह, ठाकुर-द्वारा ।
 देवाला- (हिं. पूं.) देखें 'दिवाला' ।
 देवालिया- (हिं. वि.) देखें 'दिवालिया' ।
 देवावतार- (सं. पूं.) देवता का अवतार ।
 देवावास- (सं. पूं.) स्वर्ग, सुमेरु पर्वत, देवालय ।
 देवाव- (सं. पूं.) इन्द्र का घोड़ा, उच्चैः-श्रवा ।
 देवाहार- (सं. पूं.) देवता के योग्य आहार, अमृत ।
 देवाह्वय- (सं. पूं.) देवदार का वृक्ष ।
 देविका- (सं. स्त्री.) युधिष्ठिर की एक पत्नी का नाम, घत्सुरा; (वि.) देव-संबंधी ।
 देविया- (सं. पूं.) बतूरे का पेड़ ।
 देविल- (सं. वि.) धार्मिक ।
 देवी- (सं. स्त्री.) देवपत्नी, देवता की स्त्री, दुर्गा, राजमहिषी, वह रानी जिसका राजा के साथ अभिषेक हुआ हो, पटरानी, एक सुगन्धित घास, सुशील स्त्री, स्त्री की उपाधि, अतीस, हरें, पाठा, नागरमोथा, अड़हल का फूल, सफेद इन्द्रायण, मूर्वा लता; -तंत्र- (पुं.) एक तंत्र का नाम; -त्व- (पुं.) देवी होने का भाव; -पुराण- (पुं.) वह उप-पुराण जिसमें देवी के माहात्म्य का वर्णन है; -भागवत- (पुं.) वह पुराण (अथवा कुछ लोगों की गणना में उपपुराण) जिसमें बारह स्कन्ध और अठारह हजार श्लोक हैं, इसमें विस्तृत रूप से देवी-माहात्म्य का वर्णन किया हुआ है; -माहात्म्य- (पुं.) दुर्गा देवी का माहात्म्य; -लता- (स्त्री.) अनन्तमूल; -वीर्य- (पुं.) गन्धक; -सूक्त- (पुं.) ऋग्वेद की शाकल संहिता का एक देवी-विषयक सूक्त ।
 देवेंद्र- (सं. पूं.) देवताओं के राजा इन्द्र ।
 देवेज्य- (सं. पूं.) देवताओं के आचार्य, बृहस्पति ।
 देवेश- (सं. पूं.) देवताओं के राजा विष्णु, महादेव, परमेश्वर ।
 देवेश्या- (सं. स्त्री.) देवी, पार्वती ।
 देवेशी- (सं. स्त्री.) देवी, पार्वती ।
 देवेश्वर- (सं. पूं.) शिव, महादेव ।
 देवेष्ट- (सं. वि.) देवताओं को प्रिय; (पुं.) गुग्गुलु ।
 देवे- (हिं. स्त्री.) देवकी ।

देव्या- (हिं. वि., पुं.) देनेवाला, दाता ।
 देवोत्तर- (सं. पूं.) वह सम्पत्ति जो किसी देवता के नाम पर अर्पित की गयी हो ।
 देवोत्थान- (सं. पूं.) विष्णु भगवान् का कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन शेष की शय्या पर से उठना ।
 देवोद्यान- (सं. पूं.) देवताओं के चार उद्यान या बगीचे जिनके नाम नन्दन, चैत्ररथ, वैभ्राज और सर्वतोभद्र हैं ।
 देवोन्माद- (सं. पूं.) एक प्रकार का उन्माद या पागलपन जिसमें रोगी पवित्र रहता है, सुगन्धित फूलों की माला पहिनता है, आँखें बन्द नहीं करता और संस्कृत बोलता है, यह रोग देवता के कोप से उत्पन्न होता है ।
 देव्य- (सं. पूं.) देखें 'देवत्व' ।
 देव्या- (सं. स्त्री.) ब्राह्मी बूटी ।
 देव्युन्माद- (सं. पूं.) एक प्रकार का उन्माद जिसमें पक्षाघात हो जाता है ।
 देश- (सं. पूं.) वह भू-भाग जो एक राजा के शासन में हो अथवा जहाँ की सरकार एक हो । पृथ्वी का वह भाग जिसका कोई विशिष्ट नाम हो और जिसके अन्तर्गत अनेक नगर, ग्राम आदि हों, जनपद, न्याय अथवा वैशेषिक के अनुसार वह दिक्चक्र जिससे उत्तर-दक्षिण आदि दिशाओं का ज्ञान होता है, सम्पूर्ण जाति का एक राग, शरीर का कोई अंग, स्थान, जगह ।
 देशक- (सं. वि.) उपदेश करनेवाला ।
 देशकली- (सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 देशकार- (सं. पूं.) एक सम्पूर्ण जाति काराग
 देशकारी, देशगांधार- (सं. स्त्री., पुं.) एक रागिनी या राग का नाम ।
 देशज- (सं. वि.) देशजात, देश में उत्पन्न; (पुं.) शब्द के तीन विभागों में से एक जो न तो शुद्ध संस्कृत हो, न संस्कृत का अपभ्रंश हो, परन्तु किसी देश में बोले जाने के कारण भाषा में प्रचलित हो गया हो ।
 देशधर्म- (सं. पूं.) देश की रीति के अनुसार व्यवहार ।
 देश-निकाला- (हिं. पूं.) देश के बाहर निकाले जाने का दण्ड ।
 देश-परिच्छेद- (सं. वि.) सर्वव्यापी, जो सब स्थानों में फैला हो ।
 देशपाली- (सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 देशभाषा- (सं. स्त्री.) किसी देश या प्रान्त में बोली जानेवाली भाषा ।
 देशमलार- (हिं. पूं.) सम्पूर्ण जाति का

एक राग ।
 देशराज- (सं. पूं.) आल्हा-ऊदल के पिता का नाम, यह राजा परमाल की सन्तानों में से थे ।
 देशरूप- (सं. वि.) उचित, योग्य ।
 देशस्थ- (सं. वि.) देश में रहनेवाला । (पुं.) महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों का एक भेद ;
 देशांकी- (हिं. स्त्री.) रागिनी का एक भेद ।
 देशांतर- (सं. पूं.) देशभेद, परदेश, विदेश, भूगोल में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची हुई कल्पित माध्य देशांतर से पूरव या पच्छिम की ओर की दूरी ।
 देशाका, देशाखी- (सं. स्त्री.) एक रागिनी विशेष ।
 देशाचार- (सं. पूं.) देश की प्रचलित चाल या व्यवहार ।
 देशाटन- (सं. पूं.) देशभ्रमण, अनेक देशों की यात्रा ।
 देशिक- (सं. पूं.) यात्री, पथिक, बटोही, उपदेश करनेवाला गुरु ।
 देशित- (सं. वि.) जिसको उपदेश दिया गया हो ।
 देशिनी- (सं. स्त्री.) अँगूठे और मध्यमा के बीच की अँगूठी, तजनी नामक अँगूठी, सूची ।
 देशी- (हिं. वि.) देशीय, देश का, देश-संबंधी, अपने देश का बना हुआ, स्वदेश में उत्पन्न; (सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 देशीय- (सं. वि.) देश का, अपने देश का उत्पन्न या बना हुआ ।
 देश्य- (सं. पूं.) तर्क में पूर्व पक्ष; (वि.) देश-संबंधी, देश का ।
 देष्ट- (सं. वि.) अति दानी, बहुत दान करनेवाला ।
 देस- (हिं. पूं.) देखें 'देश' ।
 देसवाली- (हिं. पूं.) गुजराती ब्राह्मणों का एक भेद ।
 देसावर- (हिं. पूं.) देशान्तर, परदेश, विदेश ।
 देसावरी- (हिं. वि.) विदेशी ।
 देसी- (हिं. वि.) स्वदेशी, अपने देश का ।
 देह- (सं. पूं.) शरीर, तनु, शरीर का कोई अंग, जीवन, मूर्ति, चित्र; (मुहा.) -छूटना- मृत्यु होना; -छोड़ना- मरना; -घरना- शरीर धारण करना; -कर्ता- (पुं.) ईश्वर, सूर्य; -कृत- (पुं.) परमेश्वर; -कोष- (पुं.) त्वचा, चमड़ा; -क्षय- (पुं.) शरीर का नाश, रोग; -ज- (पुं.) तनुज, पुत्र, बेटा; -जा- (स्त्री.) पुत्री, बेटा; (वि.) जो शरीर से उत्पन्न हो; -त्याग- (पुं.) प्राणनाश, मृत्यु; -द- (वि.) शरीर देनेवाला (पुं.) पारद, पारा;

-धारक (वि.) शरीर धारण करनेवाला; (पुं.) आहार, भोजन, अस्थि, हड्डी; -धारण- (पुं.) प्राण-धारण, शरीर-रक्षा; -धारी-(वि.) देह या शरीर धारण करनेवाला; -धि-(पुं.) पक्षियों का पंख; -धृक्-(पुं.) वायु, पवन, हवा; -पर्याप्ति-(स्त्री.) शरीर में रस, रक्त, मांस आदि की उत्पत्ति; -पात-(पुं.) मृत्यु; -भाज्-(वि.) जीवधारी, शरीर धारण करनेवाला; -भुज्-(पुं.) देह-धारी प्राणी, जीव, सूर्य; -भृत्-(पुं.) अपने-अपने कर्म के अनुसार देह का अवि-ष्ठाता जीव; -यात्रा-(स्त्री.) देह-रक्षण के उद्यम, भोजन, मरण, मृत्यु; -लक्षण-(पुं.) सामुद्रिक शास्त्र, शरीर के ऊपर का चिह्न; -चंत-(हिं. वि.) शरीरधारी; (पुं.) देह धारण करनेवाला मनुष्य; -वान्-(वि.) शरीरधारी; (पुं.) सजीव प्राणी; -वायु-(पुं.) देहस्थ पांच वायु जिनके नाम-प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान है; -शंकु-(पुं.) पत्थर का खम्भा; -संचारिणी-(स्त्री.) कन्या, पुत्री, बेटा; -साध्य-(पुं.) शरीर की समता; -सार-(पुं.) शरीर की धातु, मज्जा। देहर-(हिं. स्त्री.) नदी के किनारे की नीची भूमि। देहरा-(सं. पुं.) देवालय, ठाकुरद्वारा। देहरी-(हिं. स्त्री.) देखें 'देहली'। देहला-(सं. स्त्री.) मद्य। देहली-(सं. स्त्री.) द्वार के चौखट के नीचे लगी हुई लकड़ी, दिल्ली नगर; -दीपक-(पुं.) देहली पर रक्खा हुआ दीपक जो मीतर-झारह दोनों ओर प्रकाश फैलाता है, एक अर्थालंकार जिसमें कोई मध्यस्थ शब्द का अर्थ दोनों ओर लगता है; -प्रदीपन्याय-(पुं.) ऐसी बात जो दोनों ओर संकेत करती हो। देहांत-(सं. पुं.) मृत्यु। देहांतर-(सं. पुं.) दूसरे शरीर की प्राप्ति, मृत्यु। देहात-(हिं. स्त्री.) गाँव, ग्राम। देहाती-(हिं. वि.) देहात का, देहात-संबंधी। देहातीत-(सं. पुं.) वह ज्ञानी जिसको शरीर की भमता न हो। देहात्मवाद, देहात्मप्रत्यय-(सं. पुं.) शरीर को ही आत्मा समझने का सिद्धांत। देहात्मवादी-(सं. पुं.) शरीर को ही आत्मा समझनेवाला। देहाध्यास-(सं. पुं.) देह या उसके धर्म को

आत्मा समझने का धर्म। देहावरण-(सं. पुं.) चिड़ियों का पंख, वस्त्र। देहिका-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का कीड़ा। देही-(सं. पुं.) आत्मा, शरीरी, जीव। देहोद्भव-(सं. वि.) शरीर से उत्पन्न। देउ-(हिं. पुं.) देखें 'देव'। देक्ष-(सं. वि.) वीक्षा-संबंधी। दैव्यं-(सं. पुं.) दीर्घता, लंबाई। दैतेय-(सं. पुं.) दिति की सन्तान, दैत्य; (वि.) दिति से उत्पन्न। दैत्य-(सं. पुं.) कश्यप ऋषि के वे पुत्र जो दिति के गर्भ से उत्पन्न थे और जो देवताओं के विरोधी थे, असुर, राक्षस, विशाल काय और अति बलवान् मनुष्य, कुरावारी व्यक्ति, दानव; -गुरु-(पुं.) शूक्राचार्य; -दानवमर्दन-(पुं.) इन्द्र; -देव-(पुं.) वरुण, वायु; -द्वीप-(पुं.) गरुड़ के एक पुत्र का नाम; -द्वेषी-(पुं.) देवता; -भूमिनी-(स्त्री.) तारा देवी की तान्त्रिक उपासना में एक कर-मुद्रा का नाम; -निसूदन-(पुं.) विष्णु; -पति-(पुं.) हिरण्यक-श्यप; -पुरोधस-(पुं.) दैत्यों के पुरो-हित शूक्राचार्य; -पूज्य-(पुं.) देखें 'दैत्यपुरोधस'; -माता-(स्त्री.) दैत्यों की माता दिति; -मेदज-(स्त्री.) पृथ्वी, गुग्गुलु; -युग-(पुं.) दैत्यों का युग जो वारह वर्षों का माना जाता है; -सेना-(स्त्री.) प्रजापति की एक कन्या का नाम; -हन्-(पुं.) शिव, महादेव। दैत्या-(सं. स्त्री.) दैत्य या असुर की स्त्री। दैत्यारि-(सं. पुं.) विष्णु, इन्द्र। दैत्याहोरात्र-(सं. पुं.) दैत्यों का एक दिन जो मनुष्य के एक वर्ष के बराबर होता है। दैत्येंद्र-(सं. पुं.) दैत्यों के राजा, गन्धक; -रक्त-(पुं.) हिमाल। दैत्येज-(सं. पुं.) दैत्यों के गुरु शूक्राचार्य। दैनंदिनी-(सं. वि., स्त्री.) प्रति दिन की, प्रति दिन होनेवाली; (स्त्री.) दिनचर्या पुस्तिका, डायरी। दैन-(सं. पुं.) दीन होने का भाव, दीनता; (वि.) दिन-संबंधी, दिन का। दैनार-(सं. वि.) दीनार के सदृश। दैनिक-(सं. वि.) दिन-संबंधी, प्रतिदिन होनेवाला, प्रतिदिन का; (पुं.) एक दिन का वेतन, दैनिक-पत्र; -पत्र-(पुं.) प्रतिदिन छपनेवाला समाचारपत्र। दैनिकी-(सं. स्त्री.) डायरी, रोजनामचा। दैन्य-(सं. पुं.) दीनता, दरिद्रता, काव्य के संचारी भावों में से वह भाव जिसमें

दुःख आदि से विनीत भाव आ जाता है। दैया-(हिं. पुं.) दई, दैव; (अव्य.) भय, आश्चर्य या क्लेश का सूचक शब्द जिसका स्त्रियां अधिक व्यवहार करती हैं। दैव-(सं. वि.) देवता-संबंधी, जो कुछ देवता के विषय में किया जाय, देवता द्वारा होनेवाला, देवता को अर्पित; (पुं.) प्रारब्ध, भाग्य, विधाता, ईश्वर, आकाश। दैवक-(सं. पुं.) दैव, प्रारब्ध। दैवकी-(सं. स्त्री.) वसुदेव की पत्नी, श्रीकृष्ण की माता; -नंदन-(पुं.) वासुदेव, श्रीकृष्ण। दैवकोविद-(सं. पुं.) दैवज्ञ, ज्योतिषी, वह विद्वान् जो देव विषयों को जानता हो। दैवगति-(सं. स्त्री.) ईश्वरी घटना, प्रारब्ध, भाग्य। दैवज्ञ-(सं. पुं.) गणक, ज्योतिषी। दैवचितक-(सं. पुं.) दैवज्ञ, ज्योतिषी। दैवज्ञा-(सं. स्त्री.) ज्योतिषी की स्त्री। दैवतंत्र-(सं. वि.) भाग्य के अधीन। दैवत-(सं. पुं.) देवता, देवता-समूह, (वि.) देवता-सम्बन्धी। दैवतपति-(सं. पुं.) इन्द्र। दैवतप्रतिमा-(सं. स्त्री.) देवता की मूर्ति या प्रतिमा। दैवति-(सं. पुं.) देवता की सन्तति। दैवतीर्थ-(सं. पुं.) अँगुलियों की नोक। दैवत्य-(सं. पुं.) देवत्व। दैवदीप-(सं. पुं.) चक्षु, नेत्र, आँख। दैवदुर्विपाक-(सं. पुं.) दैव की प्रति-कूलता, अभाग्य। दैवपर-(सं. वि.) भाग्य पर भरोसा करनेवाला। दैवप्रमाण-(हिं. वि.) भाग्याधीन। दैवप्रश्न-(सं. पुं.) शुभाशुभ जानने की जिज्ञासा, देववाणी। दैवमति-(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम। दैवयुग-(सं. पुं.) मनुष्यों के चार युगों के बराबर एक युग, दिव्य युग। दैवयोग-(सं. पुं.) आकास्मिक फल, संयोग। दैवराति-(सं. पुं.) जनक राजा के पिता का माम। दैवलेखक-(सं. पुं.) मुहूर्तज्ञ, ज्योतिषी गणक। दैववंश-(सं. पुं.) देवताओं का वंश। दैववर्ष-(सं. पुं.) देवताओं का एक वर्ष। दैववश-(हिं. अव्य.) संयोग से। दैववशात्-(हिं. अव्य.) अकस्मान्। दैववाणी-(सं. स्त्री.) आकाशवाणी, संसृष्ट भाषा।

दैववादी—(सं. वि.) वह जो भाग्य के भरोसे रहता हो, निरुद्योगी, आलसी ।
 दैवचिद्—(सं. पुं.) गणक, ज्योतिषी ।
 दैवविवाह—(सं. पुं.) स्मृतियों में लिखे हुए आठ प्रकार के विवाहों में से एक ।
 दैविक श्राद्ध—(सं. पुं.) देवताओं के निमित्त किया जानेवाला श्राद्ध ।
 दैवसर्ग—(सं. पुं.) देवताओं की सृष्टि जिसके अन्तर्गत ब्राह्म, ऐन्द्र, पैत्र, गान्धर्व, याक्ष, राक्षस और पैशाच हैं ।
 दैवसृष्टि—(सं. स्त्री.) ब्रह्मा की बनाई हुई देवताओं की सृष्टि ।
 दैवहीन—(सं. वि.) जिसके भाग्य में कोई शुभ लक्षण न हो ।
 दैवाकरि—(सं. पुं.) शनि, यम ।
 दैवाकरी—(सं. स्त्री.) यमुना ।
 दवागत—(सं. वि.) सहसा होनेवाला आकस्मिक ।
 दैवागारिक—(सं. वि.) जो देवालय में नियुक्त हो ।
 दैवात्—(सं. अव्य.) अकस्मात्, अचानक ।
 दैवापत्य—(सं. पुं.) अचानक होनेवाला अनर्थ ।
 दैवाल—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।
 दैवासुर—(सं. नपुं.) देवता और असुर की शत्रुता ।
 दैवाहोरात्र—(सं. पुं.) देवताओं का एक दिन जो मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है ।
 दैविक—(सं. वि.) देवता-संबंधी, देवताओं के उद्देश्य से किया जानेवाला ।
 दैवी—(सं. वि.) देवता-संबंधी, देवकृत, देवताओं द्वारा किया हुआ, आकस्मिक, प्रारब्ध से होनेवाला, सात्त्विक; -गति—(स्त्री.) भावी, प्रारब्ध, ईश्वरी लीला ।
 दैवोद्यान—(सं. पुं.) देवताओं का बगीचा ।
 दैवोपहतक—(सं. वि.) हतभाग्य, अभाग्य ।
 दैव्य—(सं. पुं.) देवता, भाग्य, नसीब; (वि.) देवता-संबंधी ।
 दैशिक—(सं. वि.) देश-संबंधी, देशीय ।
 दैष्टिक—(सं. वि.) भाग्य के भरोसे रहनेवाला ।
 दैहिक—(सं. वि.) शरीर-संबंधी, शारीरिक, शरीर से उत्पन्न ।
 दौंकना—(हिं. क्रि. अ.) गुराँना ।
 दौंकी—(हिं. स्त्री.) धौंकनी ।
 दौंर—(हिं. पुं.) एक प्रकार का सर्प ।
 दौ—(हिं. वि. पुं.) तीन से एक कम, एक और एक, २; -एक, -चार—(वि.) थोड़े से; (मुहा.) -चार होना—मेंट-मुला-

कात होना; आँखें दोचार होना—साक्षात्कार होना; -दिन का—(वि.) थोड़े काल का ।
 दोड़—(हिं. वि.) दो संख्या का, दो ।
 दोउ, दोऊ—(हिं. वि.) दोनों ।
 दोख—(हिं. पुं.) देखें 'दोप' ।
 दोखना—(हिं. क्रि. स.) दोष लगाना ।
 दोखी—(हिं. वि.) देखें 'दोषी' ।
 दोगंग—(हिं. स्त्री.) दो नदियों के बीच का प्रदेश ।
 दोगंडी—(हिं. वि.) उपद्रव करनेवाला, उत्पाती ।
 दोगला—(हिं. वि.) वर्णसंकर; -पन—(पुं.) दोगला होने की स्थिति ।
 दोगा—(हिं. पुं.) छपे हुए मोटे दुसूती कपड़े का ओढ़ना, छूने के लिए पानी में घोला हुआ चूना ।
 दोगाड़ा—(हिं. पुं.) दो नलियों की बन्दूक ।
 दोगुना—(हिं. वि.) देखें 'दुगुना' ।
 दोगव्य—(सं. वि.) दुहने योग्य ।
 दोग्धा—(सं. वि.) ग्वाला, अहीर; (वि.) दुहनेवाला, दुहने योग्य ।
 दोग्धी—(सं. स्त्री.) दुधार गाय ।
 दोग्ध—(सं. पुं.) दुहनेवाला मनुष्य ।
 दौच—(हिं. स्त्री.) असमंजस, दुवधा, दुःख, कष्ट, दबाव ।
 दौचन—(हिं. स्त्री.) दुविधा, असमंजस ।
 दौचना—(हिं. क्रि. स.) किसी काम को करने के लिए बड़ा आग्रह करना, दबाव देना ।
 दौचित्ता—(हिं. वि.) जिसका चित्त एक विषय में स्थिर न हो, उद्विग्न चित्त का ।
 दौचित्ती—(हिं. स्त्री.) चित्त की अस्थिरता, उद्विग्नता ।
 दौज—(हिं. स्त्री.) किसी पक्ष की दूसरी तिथि, द्वितीया, दूज ।
 दौजख—(फा. पुं.) इस्लाम धर्म के अनुसार नरक का नाम ।
 दौजखी—(फा. वि.) दौजख का, दौजख-संबंधी ।
 दौजानु—(हिं. अव्य.) घुटने के बल ।
 दौतला, दौतल्ला—(हिं. वि.) दो खण्डों का (घर) ।
 दौतारा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का दुशाला, दो तारों का एक प्रकार का बाजा ।
 दौदना—(हिं. क्रि. स.) कहीं हुई बात को अस्वीकार करना ।
 दौदरी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का सदा-बहार वृक्ष ।
 दौदलक—(हिं. पुं.) चने की दाल या तरकारी ।

दौदा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बड़ा कौवा ।
 दौदाना—(हिं. क्रि. स.) किसी को दोदने में प्रवृत्त करना ।
 दौदामी—(हिं. वि.) देखें 'दुदामी' ।
 दौदिन—(हिं. पुं.) रीठे की जाति का एक वृक्ष ।
 दौदिला—(हिं. वि.) दोचित्ता, जिसका चित्त एकाग्र न हो ।
 दौदिली—(हिं. स्त्री.) चित्त की अस्थिरता ।
 दौध—(सं. पुं.) गोप, ग्वाला, अहीर ।
 दौधक—(सं. पुं.) एक वर्णवृत्त का नाम ।
 दौधार—(हिं. पुं.) भाला, बरछा ।
 दौधारा—(हिं. वि.) जिस शस्त्र में दोनों ओर धार हो; (पुं.) एक प्रकार का थूहर का पीघा ।
 दौधुयमान—(सं. वि.) बारंबार या निरंतर कांपनेवाला ।
 दौन—(हिं. पुं.) भूमि का वह नीचा भाग जो दो पर्वतों के बीच में हो, दो नदियों के बीच का प्रदेश, दो नदियों का संगम-स्थान, दो वस्तुओं का मेल, धान सींचने का एक प्रकार का खोखला किया हुआ लंबा काठ ।
 दौनला, दौनली—(हिं. वि.) दो नालों या नलियोंवाला ।
 दौना—(हिं. पुं.) कटोरी के आकार का पत्तों का बना हुआ पात्र ।
 दौनिथा—(हिं. स्त्री.) छोटा दौना ।
 दौनों—(हिं. वि.) उभय, एक और भी दूसरा ।
 दौपंथी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की दोहरे वनावट की जाली ।
 दौपट्टा—(हिं. पुं.) देखें 'दुपट्टा' ।
 दौपलका—(हिं. वि.) दो पल्लों का; (पुं.) दोहरा नगीना, एक प्रकार का कव्तर ।
 दौपलिया—(हिं. वि.) देखें 'दोपल्ली' ।
 दौपल्ली—(हिं. वि.) दो पल्लोंवाला, जिसमें दो पल्ले हों; (स्त्री.) दो कपड़ों को एक में सिलकर बनाई हुई टोपी, दोपलिया ।
 दौपहर—(हिं. स्त्री.) प्रातःकाल और संध्या के बीच का समय, मध्याह्न काल ।
 दौपहरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'दोपहर' ।
 दौपीठा—(हिं. वि.) जिस छपे वस्त्र के दोनों ओर समान रंग-रूप हों; (पुं.) कागज को एक ओर छापने के बाद दूसरी ओर छापना ।
 दौपीठा—(हिं. पुं.) किसी वस्तु का आधा भाग ।
 दौबल—(हिं. पुं.) अपराध, दोष ।
 दौबा—(हिं. पुं.) दुविधा ।
 दोभाषिया—(हिं. पुं.) देखें 'दुभाषिया' ।

दोमट—(हि.स्त्री.) बालू मिली हुई मिट्टी ।
 दोमहला—(हि.वि.) दो खण्डों या तलों का ।
 दोमुँहा—(हि. वि.) जिसके दो मुख हों,
 दोहरी चाल चलनेवाला, कपटी;—साँप—
 (पुं.) एक प्रकार का साँप जिसकी पूँछ
 मोटी होकर मुख के समान दिखाई
 पड़ती है; कुटिल या कपटी मनुष्य ।
 दोमुँही—(हि. स्त्री.) सोनारों का नक्काशी
 करने का एक उपकरण ।
 दोय—(हि. वि.) दो, दोनों ।
 दोयरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का
 पहाड़ी वृक्ष ।
 दोयल—(हि. पुं.) वया पक्षी ।
 दोरंगा—(हि. वि.) जिसमें दो रंग हों,
 दो रंगोंवाला, दोनों ओर चलनेवाला,
 वर्णसंकर, दोगला ।
 दोरंगी—(हि. वि. स्त्री.) देखें 'दोरंगा';
 (स्त्री.) कपट, छल ।
 दोरक—(सं. पुं.) वीन की तांत बाँधने की
 रस्सी ।
 दोरसा—(हि. वि.) जिसमें दो तरह का
 स्वाद या रस हों, एक प्रकार का पीने
 का तमाखू जिसका धुआँ कड़वा और
 मीठा होता है;—दिन—(पुं.) ऐसा दिन
 जब गरमी और सरदी दोनों रहती हैं ।
 दोराहा—(हि. पुं.) वह स्थान जहाँ से
 दो ओर दो मार्ग जाते हैं ।
 दोर्रह—(सं. पुं.) हाथ पकड़ना, हाथ
 की पीड़ा ।
 दोर्ज्या—(सं.पुं.) भुज के आकार की ज्या ।
 दोर्दंड—(सं. पुं.) बाहु रूप दण्ड, भुजदण्ड ।
 दोर्मध्य—(सं. पुं.) बाहु का मध्य भाग ।
 दोर्मूल—(सं. पुं.) कक्ष, काँख ।
 दोल—(सं.पुं.) हिडोला, दोलना, झूला, डोली ।
 दोलड़ा—(हि. वि.) जिसमें दो लड़ें हों ।
 दोलती—(हि. स्त्री.) देखें 'दुलती' ।
 दोला—(सं.स्त्री.) हिडोला, झूला, डोली ।
 दोलायमान—(सं. वि.) झूलता हुआ,
 हिलता हुआ ।
 दोलायुद्ध—(सं.पुं.) वह युद्ध जिसमें बराबर
 दोनों पक्षों की हार-जीत रहती है ।
 दोलिका—(सं.स्त्री.) झूला, हिडोला, डोली ।
 दोलित—(हि. वि.) चंचल, दोलायमान ।
 दोली—(सं. स्त्री.) देखें 'डोली' ।
 दोलोत्सव—(सं. पुं.) वैष्णवों का एक
 उत्सव जो फाल्गुन की पूर्णिमा को
 मनाया जाता है ।
 दोश—(हि. पुं.) एक प्रकार की लालू जो
 रंग बनाने के काम में आती है ।
 दोशाला—(हि. पुं.) देखें 'दुशाला' ।

दोष—(सं.पुं.) पाप, शरीर का विकार जो
 वात, पित्त या कफ के कुपित होने से
 उत्पन्न होता है, गौ के बध आदि का लगने-
 वाला अपराध, न्याय में वह त्रुटि जो
 तर्क के अवयवों के प्रयोग करने में होती
 है, मिथ्या-ज्ञान से उत्पन्न होनेवाला
 मानसिक भाव, प्रदोष काल, अपराध,
 साहित्य में वे बातें जो काव्य के गुण
 को कम कर देती हैं, द्वेष, अवगुण;
 -क—(पुं.) गाय का बच्चा, बछड़ा;
 -ग्राही—(वि.) दुर्जन, दुष्ट; -घ्न—
 (वि.) पित्तादिकदोषों को शान्त करने-
 वाली औषध; -ज्ञ—(पुं.) चिकित्सक,
 वैद्य, पंडित; -सा—(स्त्री.) दोषी होने
 का भाव; -त्रय—(पुं.) वात, पित्त
 और कफ; -त्व—(पुं.) दोषी होने का
 बर्णन या भाव; -यत्र—(पुं.) वह कागज
 जिसपर अपराधी के अपराधों का विवरण
 लिखा रहता है; -पाचन—(पुं.)
 कपित्थ, कैथ का पेड़; -भेद—(पुं.)
 आयुर्वेद के अनुसार वासठ प्रकार के
 दोषों में से एक ।
 दोषन—(हि.पुं.) दूषण, दोष, अपराध ।
 दोषना—(हि. क्रि. स.) अपराध या दोष
 लगाना ।
 दोषल—(सं.वि.) दोषयुक्त, जिसमें दोष हों ।
 दोषांध—(सं. पुं.) आँख का एक रोग ।
 दोषा—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात, बाहु ।
 दोषाकर—(सं. पुं.) अवगुण की खान,
 चन्द्रमा ।
 दोषाकलेशी—(सं. स्त्री.) वन-तुलसी ।
 दोषाक्षर—(सं. पुं.) अभियोग, अपराध ।
 दोषातन—(सं. वि.) रात्रिभय, रात में
 होनेवाला ।
 दोषातिलक—(सं. पुं.) दीपक ।
 दोषाभूत—(सं. वि.) रात्रि में परिणत ।
 दोषारोपण—(सं. पुं.) दोष लगाना ।
 दोषायह—(सं. वि.) दोषपूर्ण, जिसमें दोष हो ।
 दोषास्य—(सं. पुं.) प्रदोष ।
 दोषिक—(सं. पुं.) रोग ।
 दोषिन—(हि. स्त्री.) पाप करनेवाली स्त्री ।
 दोषी—(सं. वि.) दोषयुक्त, अपराधी,
 अभियुक्त, पापी ।
 दोषकदूक—(सं. वि.) वह जो गुणों को न
 देखकर केवल दोषों को खोजता फिरता है ।
 दोस—(हि. पुं.) देखें 'दोष' ।
 दोसदारी—(हि. स्त्री.) मित्रता ।
 दोसा—(हि. पुं.) पानी में उगनेवाली एक
 प्रकार की घास ।
 दोसाध—(हि. पुं.) देखें 'दुसाध' ।

दोसाल—(हि.पुं.) वरमा देव का लकड़ी
 डोनवाला हाथी ।
 दोसाला—(हि. वि.) दो साल का, दो वर्षों
 का पुराना ।
 दोसाही—(हि. वि.) जिस खेत में दो फसलें
 होती हों ।
 दोसूती—(हि.स्त्री.) विछाने की मोटी चादर ।
 दोस्त—(फा. पुं.) मित्र, सुहृद् ।
 दोस्ताना—(फा. पुं.) मित्रता, सौहार्द ।
 दोस्ती—(फा. स्त्री.) मित्रता ।
 दोस्थ—(सं.वि.) जो बहुत दूर हो; (पुं.)
 खेलनेवाला ।
 दोह—(सं. पुं.) दुहने का वस्तु, दूध,
 दोहन, दुहने का काम, देखें 'दोह' ।
 दोहगा—(सं. स्त्री.) उपपत्नी, रखनी ।
 दोहज—(सं. पुं.) दुग्ध, दूध ।
 दोहता—(हि. पुं.) कन्या का पुत्र, नाती ।
 दोहत्यड़—(हि. पुं.) वह थप्पड़ जो
 दोनों हाथों से मारा जाय ।
 दोहत्या—(हि.अव्य.) दोनों हाथों से, दोनों
 हाथों के द्वारा; (वि.) जो दोनों हाथों
 से किया जाय ।
 दोहद—(सं. पुं., स्त्री.) गर्भवती स्त्री की
 अभिलाषा या इच्छा, उकाना, वान्ति जो
 गर्भवती स्त्री को होती है, गर्म का चिह्न;
 -लक्षण—(पुं.) दोहद के लक्षण, गर्म के
 लक्षण; -वती—(स्त्री.) गर्भवती स्त्री ।
 दोहदाश्विना—(सं.स्त्री.) देखें 'दोहदवती' ।
 दोहन—(सं. पुं.) पशुओं के स्तन से दूध
 निकालना, दुहने का पात्र, दोहनी ।
 दोहना—(हि.क्रि.स.) दोष या ऐव निकालना ।
 दोहनी—(सं.स्त्री.) दूध दुहने का मिट्टी का
 पात्र, दूध दुहने का काम; -कुंड—(पुं.)
 वह कुण्ड जहाँ श्रीकृष्ण गाय दुहते थे ।
 दोहर—(हि. स्त्री.) दो परतों की बनी
 हुई ओढ़ने की चादर ।
 दोहरना—(हि.क्रि.अ., स.) दूसरी आवृत्ति
 होना, दोबारा होना, दो परत किया जाना
 दोहरा—(हि. वि.) जिसमें दो परतें या
 तहें हों, दुगना; (पुं.) पान के दो बीड़े जो
 एक पत्ते में लपेटे हों, दोहा नामक छन्द ।
 दोहराना—(हि. क्रि. स.) किसी बात को
 दुबारा करना, पुनरावृत्ति करना, कपड़े
 आदि की दो तहें करना ।
 दोहरीपट—(हि. स्त्री.) मल्ल-युद्ध की एक
 युक्ति ।
 दोहल—(सं. पुं.) देखें 'दोहद'; -वती—
 (स्त्री.) गर्भवती स्त्री ।
 दोहला—(हि. वि., स्त्री.) जिसने दो बार
 बच्चा दिया हो ।

दोहली-(सं. स्त्री.) अशोक वृक्ष, मदार का पेड़ ।

दोहा-(हि. पुं.) हिन्दी का एक मात्रावृत्त छन्द, संकीर्ण राग का एक भेद ।

दोहाई-(हि. स्त्री.) देखें 'दुहाई' ।

दोहापनय-(सं. पुं.) गाय का दूध ।

दोहाक, दोहाग-(हि. पुं.) दुर्भाग्य, अभाग्य ।

दोहागा-(हि. वि.) अभाग्य ।

दोहित-(सं. वि.) दुहा हुआ; (हि. पुं.) दोहता, नाती ।

दोही-(सं. वि.) दूहनेवाला; (पुं.) गोप, ग्वाला ।

दोही-(हि. स्त्री.) दोहे की तरह का एक छन्द ।

दोह्य-(सं. वि.) दोहनीय, दुहने योग्य ।

दौं-(हि. अव्य.) देखें 'धौं' ।

दौंकना-(हि. क्रि. अ.) दमकना, चमकना ।

दौंचना-(हि. क्रि. स.) दबाव डालकर लेना ।

दौरी-(हि. स्त्री.) खेती की उपज के डंठलों में से दाना अलगाने के लिये इनको बैलों से कुचलवाना, दँवरी, बैलों को दौंधने की रस्सी, झुण्ड ।

दौं-(हि. स्त्री.) जंगल की अग्नि, संताप, जलन ।

दौकल-(सं. पुं.) कपड़े से ढका हुआ रथ ।

दौड़-(हि. स्त्री.) दौड़ने की क्रिया, द्रुत-गमन, धावा, चढ़ाई, गति की सीमा, पहुँच, फैलाव, विस्तार, लम्बाई, सिपा-हियों का वह दल जो अपराधियों को पकड़ने के लिये एक साथ जाता है, बुद्धि की पहुँच, अधिक से अधिक दौड़-घूप करना; (मुहा.)-मारना या लगाना-वार-वार आना-जाना, लम्बी यात्रा करना; मन की दौड़-कल्पना; -घूप-(स्त्री.) भरपूर प्रयत्न, किसी काम के लिए इधर-उधर आना-जाना ।

दौड़ना-(हि. क्रि. अ.) द्रुत गति से चलना, प्रवृत्त होना, झुक पड़ना, दौड़-घूप लगाकर, उद्योग करना, व्याप्त होना, फलना, छा जाना; (मुहा.) चढ़ दौड़ना-आक्रमण करना, धावा करना; दौड़ दौड़कर आना-वारंवार आना ।

दौड़ादौड़-(हि. अव्य.) अविश्रान्त ।

दौड़ादौड़ी-(हि. स्त्री.) अनेक मनुष्यों का एक साथ इधर-उधर दौड़ना, व्यग्रता, आतुरता, दौड़-घूप ।

दौड़ान-(हि. स्त्री.) दौड़ने की क्रिया या भाव, वेग, क्रम, झोंक, फेरा ।

दौड़ाता-(हि. क्रि. स.) जल्दी-जल्दी चलाना, वारंवार आने-जाने के लिए विवश करना, कलंग चलाना, रंग पीतना या फँलाना,

किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना ।

दौत्य-(सं. पुं.) दूतकर्म, दूत का काम ।

दौन-(हि. पुं.) देखें 'दमन' ।

दौना-(हि. पुं.) एक प्रकार का सुगन्धित पौधा; (हि. क्रि. अ.) दमन करना ।

दौनागिरि-(हि. पुं.) द्रोणगिरि नामक पर्वत ।

दौर-(अ. पुं.) चक्कर, भ्रमण, फेरा, दिनों का फेर, भाग्य-विपर्यय; -दौरा-(पुं.) बोलवाला. प्रधानता ।

दौरना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'दौड़ना' ।

दौरा-(अ. पुं.) चक्कर, भ्रमण, फेरा, गश्त, प्रशासनिक अधिकारियों का सामयिक जाँच-पड़ताल के लिए क्षेत्र में जाना; (हि. पुं.) बड़ा टोकरा ।

दौरास्य-(सं. पुं.) दुर्जनता, दुष्टता ।

दौरादौर-(हि. अव्य.) धुन से, तेजी के साथ ।

दौरान-(अ. पुं.) चक्कर, फेरा ।

दौराना-(हि. क्रि. स.) देखें 'दौड़ना' ।

दौरित्त-(सं. पुं.) क्षति, हानि ।

दौरी-(हि. स्त्री.) छोटी टोकरी ।

दौर्ग-(सं. वि.) दुर्ग-संबंधी ।

दौर्ग्य-(सं. पुं.) दरिद्रता, दुःखित अवस्था ।

दौर्ग्य-(सं. वि.) दुर्ग-संबंधी ।

दौर्ग्रह-(सं. पुं.) अश्वमेध यज्ञ ।

दौर्जन्य-(सं. पुं.) दुर्जनत्व, दुर्जनता, दुष्टता, बुरा व्यवहार ।

दौर्बल्य-(सं. पुं.) दुर्बलता ।

दौर्मनस्य-(सं. पुं.) कुमन्त्रणा, बुरा विचार ।

दौर्य-(सं. पुं.) दूरी, अन्तर ।

दौर्योधन-(सं. वि.) दुर्योधन-संबंधी ।

दौवसिय-(सं. पुं.) एक उपपुराण का नाम ।

दौर्वीण-(सं. पुं.) स्वच्छन्दता ।

दौर्हिद-(सं. पुं.) दुष्ट प्रकृति, बुरा स्वभाव ।

दौर्ह्वय-(सं. पुं.) दुष्टता, नीचता ।

दौलत-(अ. स्त्री.) धन, संपत्ति; -खाना-(पुं.) वासस्थान, निवास, घर; -संद-(वि.) धनी, मालदार; -संदी-(स्त्री.) मालदारी, ऐश्वर्य ।

दौलिय-(सं. पुं.) कच्छप कछुवा ।

दौलिम-(सं. पुं.) इन्द्र ।

दौवारिक-(सं. पुं.) द्वारपाल, द्वार-रक्षक, ड्योहीदार ।

दौकुल-(सं. वि.) निन्दित कुल का ।

दौकुल्य-(सं. पुं.) दुष्टता, नीचता ।

दौहिक-(सं. वि.) प्रतिदिन दुहने योग्य ।

दौहित्र-(सं. पुं.) लड़की का पुत्र, नाती ।

दौहद-(सं. पुं.) देख 'दौहद' ।

धावाक्षमा-(सं. स्त्री.) स्वर्ग और पृथ्वी ।

धावापृथ्वी-(सं. स्त्री.) भूमि और पृथ्वी ।

द्यु-(सं. पुं.) स्वर्ग, आकाश, दिन, अग्नि, सूर्यलोक ।

द्युकारि-(सं. पुं.) काक, कौवा ।

द्युग-(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया ।

द्युगत् (सं. अव्य.) शीघ्र ।

द्युचर-(सं. पुं.) ग्रह, पक्षी ।

द्युत्-(सं. वि.) प्रकाशवान् ।

द्युतान-(सं. वि.) चमकीला ।

द्युतर-(सं. पुं.) कल्पतरु ।

द्युति-(सं. स्त्री.) दीप्ति, कान्ति, चमक, शोभा, देह का लावण्य, रश्मि, किरण; -कर-(वि.) प्रकाश उत्पन्न करनेवाला; -धर-(वि.) प्रकाश धारण करनेवाला; -मणि-(पुं.) मदार का वृक्ष; -मान्-(वि.) चमकदार ।

द्युतित-(सं. वि.) चमकता हुआ ।

द्युतिमा-(सं. स्त्री.) तेज, प्रकाश ।

द्युधनि-(सं. स्त्री.) गंगा नदी ।

द्युनिवास, द्युनिवासी-(सं. पुं.) देवता ।

द्युपति-(सं. पुं.) सूर्य, इन्द्र ।

द्युपथ-(सं. पुं.) स्वर्ग का मार्ग ।

द्युमणि-(सं. पुं.) सूर्य, मदार का पेड़ ।

द्युमत-(सं. वि.) कान्तियुक्त, चमकदार ।

द्युमत्सेन-(सं. पुं.) सत्यवान् के पिता का नाम जो शाल्व देश के राजा थे ।

द्युमयी-(सं. स्त्री.) विश्वकर्मा की कन्या का नाम ।

द्युम्न-(सं. पुं.) सूर्य, घन, अन्न ।

द्युलोक-(सं. पुं.) स्वर्ग लोक ।

द्युषद-(सं. पुं.) देवता, नक्षत्र, घन ।

द्युषदम्-(सं. पुं.) स्वर्ग ।

द्युसरित्, द्युसिधु-(सं. स्त्री.) मन्दाकिनी-जाह्नवी ।

द्युत्-(सं. पुं.) दाँव वदकर खेला जानेवाला खेल, जुआ; -कर-(पुं.) जुआ खेलनेवाला, जुआरी; -कारक-(वि.) जुआ खेलनेवाला; -पूर्णिमा-(स्त्री.) कोजागर, आश्विन मास की पूर्णिमा; -फलक-(पुं.) वह चौकी जिस पर जुए की कौड़ी फेंकी जाय; -भूमि-(स्त्री.) जुआ खेलने का अड्डा । -वृत्ति-(वि.) जो जुआ खेलकर अपनी वृत्ति चलाता हो ।

द्युत-(सं. वि.) क्षीण ।

द्यो-(सं. पुं.) स्वर्ग, आकाश, आठ वसुओं में से एक ।

द्योत-(सं. पुं.) प्रकाश, आतप ।

द्योतक-(सं. वि.) प्रकाश करनेवाला ।

द्योतन-(सं. पुं.) प्रकाशन, दीप, दीया, दिग्दर्शन, दिखलाने का काम ।

द्योतभूमि—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया;
(स्त्री.) स्वर्ग और भूमि।
द्योति—(हिं. स्त्री.) कान्ति।
द्योतित—(सं. वि.) प्रकाशित।
द्योहरा—(हिं. पुं.) देखें 'देवहरा'।
द्रग—(हिं. पुं.) दृग, नेत्र।
द्रगड़—(सं. पुं.) एक प्रकार का बाजा, दगड़।
द्रड़िमन्—(सं. पुं.) दृढ़ता, मजबूती।
द्रप्स—(सं. पुं.) तक्र, मठा, रस, शुक।
द्रम्भ—(सं. पुं.) सोलह पणों की एक प्राचीन मुद्रा।
द्रव—(सं. पुं.) द्रवण, पलायन, दौड़, हँसी, वहाव, तरल द्रव्य, आसव, रस, वेग, गति; (वि.) आर्द्र, तरल, गीला, पिघला हुआ; -क—(पुं.) क्षरण-शील, बहनेवाला; -ज—(पुं.) गुड़, रस से बनाई जानेवाली वस्तु; -ण—(पुं.) गमन, दौड़, क्षरण, वहाव, गरमी से पिघलने की क्रिया, हृदय पर कर्षणापूर्ण प्रभाव पड़ने का भाव; -ता—(स्त्री.) पानी की तरह पतला होना या बहना; द्रव होने का भाव; -त्व—(पुं.) द्रवता; -रसा—(स्त्री.) लाक्षा, लाह।
द्रवना—(हिं. क्रि. अ.) पिघलना, पसीजना, पानी की तरह बहना, दयापूर्ण होना।
द्रवाधार—(सं. पुं.) तरल पदार्थ रखने का पात्र।
द्रविड़—(सं. पुं.) दक्षिण भारत के एक देश का नाम, इस देश का निवासी, ब्राह्मणों का एक भेद जिसके अन्तर्गत आन्ध्र, कर्णाटक, गुर्जर, द्रविड़ और महाराष्ट्र हैं।
द्रविड़ी—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम।
द्रविण—(सं. पुं.) घन, सोना, पराक्रम, बल।
द्रविणक—(सं. पुं.) अग्नि की एक स्त्री का नाम।
द्रवीकरण—(सं. पुं.) गलाने की क्रिया।
द्रवीकृत—(सं. वि.) गलाया हुआ।
द्रवीभाव—(सं. पुं.) गलने की क्रिया।
द्रवीभूत—(सं. वि.) जो जल के समान द्रव हो गया हो, कृपालु, दयालु।
द्रव्य—(सं. पुं.) वस्तु, वित्त, घन, पृथ्वी आदि नौ पदार्थ, औषधि, सामग्री, जल, लाह, मध्य, वैशेषिक दर्शन के अनुसार नौ पदार्थ, यथा—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन; -क—(सं. वि.) द्रव्य का वाहक; -त्व—(पुं.) द्रव्य का भाव, द्रव्यपन; -वान्—(वि.) घनवान्, घनी।
द्रष्टव्य—(सं. वि.) दर्शनीय, देखने योग्य, दिखाया जानेवाला, जो जताना या

वतलाना हो।
द्रष्टा—(सं. वि.) दर्शक, देखनेवाला, प्रकाशक, साङ्ख्य मत के अनुसार पुरुष, योग-दर्शन के अनुसार आत्मा।
द्रह—(सं. पुं.) अगाध जल का ताल।
द्राक्षा—(सं. स्त्री.) दाख, अंगूर।
द्राधिमा—(सं. स्त्री.) दीर्घता, लंबाई, भूमध्य रेखा के समानान्तर पृथ्वी के चारों ओर खीची हुई वे कल्पित रेखायें जो अक्षांश सूचित करती हैं।
द्राण—(सं. वि.) सुप्त, सोया हुआ; (पुं.) स्वप्न।
द्राप—(सं. पुं.) कीचड़, आकाश, कौड़ी; (वि.) मूख।
द्राव—(सं. पुं.) क्षरण, वहाव, गमन, अनुताप, गरमी, उष्णता, पसीजने की या बहने की क्रिया।
द्रावक—(सं. पुं.) चन्द्रकान्त मणि; (वि.) हृदयग्राही, द्रवित करनेवाला, बहानेवाला, हृदय पर प्रभाव डालनेवाला, पीछा करनेवाला, चतुर, व्यभिचारी; (पुं.) मोम, सुहागा।
द्रावकर—(सं. पुं.) टंकण, सोहागा।
द्रावण—(सं. पुं.) द्रवीभूत करने का काम, पिघलाने का काम।
द्राविका—(सं. स्त्री.) लार, मोम।
द्राविड़—(सं. वि.) द्रविड़ देश में उत्पन्न, द्रविड़ देश में रहनेवाला।
द्राविड़क—(सं. पुं.) काला लवण।
द्राविड़ी—(हिं. स्त्री.) द्रविड़ जाति की स्त्री; (वि.) द्रविड़, देश का।
द्रावित—(सं. वि.) द्रवीभूत, गलाया हुआ।
द्राव्य—(सं. वि.) गलनेवाला, गलने योग्य।
द्रु—(सं. पुं.) वृक्ष, शाखा, गति।
द्रुघन—(सं. पुं.) मुद्गर के आकार का एक हथियार।
द्रुण—(सं. पुं.) धनुष, तलवार, भौरा, मधुमक्खी।
द्रुणस—(सं. वि.) लंबी नाकवाला।
द्रुणा—(सं. स्त्री.) धनुष की डोरी, चिल्ला।
द्रुणाह—(सं. पुं.) तलवार का म्यान।
द्रुणि—(सं. स्त्री.) सन्दूक, पिटारा।
द्रुणी—(सं. स्त्री.) कछुई, कठवत, कठौता।
द्रुत—(सं. वि.) गला हुआ, तीव्र, शीघ्र-गामी, मागा हुआ; (पुं.) विच्छ, विल्ली, वह लय जो मध्यम से कुछ तीव्र हो, खरहा, हरिन, विन्दु, व्यंजन।
द्रुतगति—(सं. स्त्री.) तीव्र गति; (वि.) शीघ्र चलनेवाला।
द्रुतगामी—(सं. वि.) शीघ्र चलनेवाला।

द्रुतचारी—(सं. वि.) भूमि पर वेग से चलनेवाला।
द्रुतत्रिताली—(सं. स्त्री.) देखें 'कौवाली'।
द्रुतपद—(सं. पुं.) शीघ्रगामी डग एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में वारह अक्षर होते हैं; (वि.) द्रुतगामी, द्रुतचारी।
द्रुतमध्या—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का वर्णवृत्त जिसके पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे पद समात्रिक होते हैं।
द्रुतमांस—(सं. पुं.) हरिण, खरहे आदि का मांस।
द्रुतविलंबित—(सं. पुं.) एक छन्द का नाम जिसके प्रत्येक चरण में वारह अक्षर होते हैं।
द्रुति—(सं. स्त्री.) द्रव, गति।
द्रुतख—(सं. पुं.) कण्टक, कांटा।
द्रुपद—(सं. पुं.) एक चन्द्रवंशी राजा का नाम जो महाभारत के युद्ध में मारे गये थे, इनके पुत्र का नाम शिशुषडी था।
द्रुपदा—(सं. स्त्री.) एक वैदिक मन्त्र का नाम।
द्रुपदात्मज—(सं. पुं.) द्रुपद के पुत्र शिशुषडी और धृष्टद्युम्न।
द्रुम—(सं. पुं.) वृक्ष, पेड़, परजाता, अमलतास का वृक्ष, रुक्मिणी से उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम।
द्रुमकिल—(सं. पुं.) देवदार का वृक्ष।
द्रुमग—(सं. पुं.) वह देश जहाँ जल कम हो।
द्रुमध्वज—(सं. पुं.) ताड़ का वृक्ष।
द्रुमनख—(सं. पुं.) कण्टक, कांटा।
द्रुमव्याधि—(सं. पुं.) लाक्षा, लाह।
द्रुममर—(सं. पुं.) कण्टक, कांटा।
द्रुमवल्क—(सं. पुं.) वृक्ष की छाल।
द्रुमशय—(सं. पुं.) वानर, बन्दर।
द्रुमश्रेष्ठ—(सं. पुं.) ताड़ का वृक्ष।
द्रुमशीर्ष—(सं. पुं.) पेड़ का शिखर।
द्रुमसार—(सं. पुं.) दाड़िम, अनार।
द्रुमारि—(सं. पुं.) हस्ति, हाथी।
द्रुमाश्रय—(सं. पुं.) गिरगिट।
द्रुमिणी—(सं. स्त्री.) घन, जंगल।
द्रुमिल—(सं. पुं.) एक दानव का नाम जो सौर देश का राजा था।
द्रुमिला—(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में दत्तीस मात्राएँ होती हैं और प्रत्येक चरण के अन्त का अक्षर गुरु होता है।
द्रुमेश्वर—(सं. पुं.) ताड़ का वृक्ष, चन्द्रमा, पारिजात।
द्रुमोत्पल—(सं. पुं.) कन्दक चरपा।
द्रुह—(सं. पुं.) दुहा, पुत्र, देटा; (वि.) द्रोह करनेवाला।

द्रुहण, द्रुहिण—(सं. पूं.) ब्रह्मा ।
 द्रुही—(सं. स्त्री.) दुहिता, कन्या, बेटी ।
 द्रुह्यु—(सं. पूं.) ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा के बड़े लड़के का नाम जिन्होंने अपने पिता का वृद्धापा लेना अस्वीकार किया था, इससे ययाति ने उनको शाप दिया था ।
 द्रु—(सं. पूं.) सुवर्ण, सोना ।
 द्रुक्कण—(सं. पूं.) ज्योतिष के अनुसार लग्न का तृतीय भाग ।
 द्रुघण—(सं. पूं.) मुद्गर ।
 द्रुण—(सं. पूं.) वृश्चिक, विच्छू ।
 द्रुघमित्र—(सं. पूं.) हानि पहुँचानेवाला मित्र ।
 द्रुण—(सं. पूं.) एक प्राचीन माप जो प्रायः सोलह सेर के बराबर होती थी, अरणी की लकड़ी, काठ का बना हुआ पात्र जिसमें वदिक काल में सोम रस रखा जाता था, कठवत, लकड़ी का रथ, डोमकौवा, विच्छू, वृक्ष, एक पर्वत का नाम, नाव, डोंगा, एक प्रकार का फूल, नील का पौधा, केला, महाभारत के एक प्रसिद्ध वीर का नाम जो ब्राह्मण थे;—कलश—(पुं.) लकड़ी का बना हुआ पात्र जिसमें यज्ञ का सोमरस छाना जाता था;—काक—(पुं.) डोमकौवा, काला कौवा;—क्षीरा—(स्त्री.) वह गाय जो सोलह सेर दूध देती हो;—गिरि—(पुं.) एक पर्वत का नाम, (हनुमानजी संजीवनी जड़ी लेने के लिए इसी पर्वत पर गये थे);—दुग्धा,—दुधा—(स्त्री.) देखें 'द्रोण-क्षीरा';—पुष्पी—(स्त्री.) गूमा नामक जड़ी;—मुख—(पुं.) वह सुन्दर गाँव जो चार सौ गाँवों के बीच में हो;—मेघ—(पुं.) बादलों के एक अधिपति का नाम ।
 द्रुणाचार्य—(सं. पूं.) भरद्वाज ऋषि के पुत्र जिन्होंने कौरवों तथा पाण्डवों को अस्त्रविद्या सिखलाई थी । (इनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था ।)
 द्रुणास—(सं. पूं.) एक दानव का नाम ।
 द्रुणाहाव—(सं. पूं.) काठ का बना हुआ पात्र, कठवत ।
 द्रुणि—(सं. स्त्री.) कठवत, डोंगी, दो पवतों के बीच की भूमि, एक सौ अट्ठाइस सेर का प्राचीन परिमाण, अश्वत्थामा का एक नाम ।
 द्रुणिका—(सं. स्त्री.) नील का पौधा ।
 द्रुणी—(सं. स्त्री.) काठ का बना हुआ पात्र, कठवत, एक प्रकार का नमक, एक सौ अट्ठाइस सेर का प्राचीन परिमाण, द्रुणाचार्य की स्त्री कृपी, केला, शीघ्रता, दो पवतों की सन्धि, नील का

पौधा, छोटा दोना, इन्द्रायन लता;
 -दल—(पुं.) केतकी का फूल ।
 द्रोन—(हिं. पूं.) देखें 'द्रोण' ।
 द्रोमिल—(सं. पूं.) चाणक्य मुनि ।
 द्रोह—(सं. पूं.) दूसरे का अहित विचारना, धोखे से मारना, द्वेष, वैर, हिंसा, मात्सर्य ।
 द्रोहाट—(सं. पूं.) ऊपर से देखने में भला पर भीतर का खोटा मनुष्य, मृगतृष्णा ।
 द्रोही—(सं. पूं.) द्रोहक, द्रोह करनेवाला ।
 द्रोणायनि—(सं. पूं.) अश्वत्थामा ।
 द्रौणिक—(सं. वि.) वह खेत जिसमें एक द्रोण या अड़तालीस सेर बीज बोया जाय ।
 द्रौपद—(सं. पूं.) द्रुपद राजा का पुत्र ।
 द्रौपदी—(सं. स्त्री.) द्रुपद राजा की कन्या कृष्णा जिसका विवाह पाँचों पाण्डवों से हुआ था । (दुर्योधन के मामा शकुनि के कपट-द्यूत से युधिष्ठिर अपना सर्वस्व हार गये थे, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गये थे । तब दुर्योधन ने दुर्योधन द्वारा द्रौपदी को भरी सभा में बुलाकर उसका वस्त्र खिंचवाना चाहा था, परन्तु श्रीकृष्ण ने कृष्णा की लाज रख ली । उस समय के रोदन से भीम उत्तेजित हो गये और भरी सभा में उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि द्रौपदी का अपमान करनेवाले की छाती फाड़कर उसका लोहू पीऊँगा, सचमुच भीम ने महाभारत की दौड़ान में अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी ।)
 द्रौपदेय—(सं. पूं.) द्रौपदी के पाँच पुत्र ।
 द्रौहिक—(सं. वि.) द्रोह करनेवाला ।
 द्वंद—(सं. पूं.) मिथुन, जोड़ा, जोड़, युग्म, दो मनुष्यों का परस्पर लड़ना, कलह, झगड़ा, प्रतिद्वन्द्वी, द्वन्द्व युद्ध, दो शब्दों का जोड़ा, यथा—शीतोष्ण; सुख-दुःख, मला-बुरा आदि, दुर्ग, रहस्य, भेद की बात, उपद्रव, झगड़ा, संशय, दुविधा, कष्ट, दुःख, स्त्री-पुरुष या नर-मादा का जोड़ा ।
 द्वंदर—(हिं. वि.) झगड़ा ।
 द्वंद—(सं. पूं.) युग्म, जोड़ा, नर-मादा का जोड़ा, रहस्य, झगड़ा, लड़ाई, एक प्रकार का समास जिसमें जुड़े हुए सभी शब्द प्रधान रहते हैं और उनका अन्वय एक ही क्रिया के साथ होता है ।
 द्वंद्वचर, द्वंद्वचारी—(सं. पूं.) चक्रवाक, चकवा ।
 द्वंद्वज—(सं. पूं.) त्रिदोष से उत्पन्न रोग ।
 द्वंद्वयुद्ध—(सं. पूं.) दो पुरुषों का परस्पर युद्ध ।
 द्वय—(सं. पूं.) द्वन्द्व, युगल, दो; (वि.) दोहराया हुआ ।
 द्वर—(सं. वि.) विघ्न डालनेवाला ।

द्वज—(सं. पूं.) जारज, दोगला पुत्र ।
 द्वादश—(सं. वि.) दस और दो की संख्या का; (पुं.) बारह की संख्या, १२, शिव, महादेव;—क—(वि.) बारह का;—कर—(पुं.) कार्तिकेय, बृहस्पति; (स्त्री.) भैरवी का एक भेद;—भाव—(पुं.) फलित ज्योतिष के अनुसार कुण्डली के बारह घर;—लौचन—(पुं.) कार्तिकेय;—शुद्धि—(स्त्री.) वैष्णव सम्प्रदाय में तन्त्रोक्त बारह प्रकार की शुद्धियाँ ।
 द्वादशांग—(सं. वि.) जिसके बारह अंग या अवयव हों ।
 द्वादशांशु—(सं. पूं.) बृहस्पति ।
 द्वादशाक्ष—(सं. पूं.) कार्तिकेय, बुद्ध ।
 द्वादशाक्षर—(सं. पूं.) बारह अक्षरों का विष्णु का मन्त्र—“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय”, जगती छन्द का नाम जिसमें बारह अक्षर होते हैं ।
 द्वादशाख्य—(सं. पूं.) बुद्धदेव ।
 द्वादशात्मन्—(सं. पूं.) सूर्य, आक का पेड़ ।
 द्वादशायतन—(सं. पूं.) जैन दर्शन के अनुसार पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों तथा मन और बुद्धि का समुदाय ।
 द्वादशायु—(सं. पूं.) कुक्कुर, कुत्ता ।
 द्वादशार—(सं. पूं.) तन्त्र के अनुसार सुपुम्ना नाड़ी के मध्य का हृदयस्थित बारह दलों का पद्म ।
 द्वादशाशन—(सं. पूं.) वैद्यक के अनुसार बारह प्रकार के आहार ।
 द्वादशाह—(सं. पूं.) बारह दिनों में किया जानेवाला एक यज्ञ, बारह दिनों का समुदाय, वह श्राद्ध जो किसी के निमित्त उसके मरने के बारहवें दिन किया जाता है ।
 द्वादशी—(सं. स्त्री.) किसी मास के किसी पक्ष की बारहवीं तिथि ।
 द्वादशवानी—(हिं. स्त्री.) देखें 'वारहवानी' ।
 द्वापर—(सं. पूं.) चार युगों में से तीसरा युग जो भाद्र कृष्णा त्रयोदशी बृहस्पतिवार से प्रारम्भ हुआ था, यह युग आठ लाख चौसठ हजार वर्ष का माना गया है, संशय ।
 द्वार—(सं. पूं.) मुख, मुहाना, इन्द्रियों के मार्ग या छेद, साधन, उपाय, छदवाला अंग, कोठरी की भीत का वह छिद्र या खुला स्थान जिसमें से होकर आना जाना होता है ।
 द्वारक—(सं. पूं.) द्वारकापुरी ।
 द्वारकंटक—(सं. पूं.) कर्पाट, किवाड़ ।
 द्वारका—(सं. स्त्री.) चारो घामों में से एक एक प्राचीन नगरी जो काठियावाड़ (गुजरात) में है ।

द्वारकाधीश—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण की वह मूर्ति जो द्वारका में है, श्रीकृष्णचन्द्र ।
 द्वारकानाथ—(सं. पुं.) देखें 'द्वारकाधीश' ।
 द्वारकेश—(सं. पुं.) वासुदेव, द्वारकानाथ ।
 द्वारगोप—(सं. पुं.) द्वारपाल, डचोड़ीदार ।
 द्वारचार—(सं. पुं.) विवाह की एक रीति जो वारात के कन्या के द्वार पर पहुँचने पर होती है ।
 द्वारछेकाई—(हि. स्त्री.) विवाह की एक रीति जिसमें जब वर-वधू घर में जाते हैं तब वर की बहिन मार्ग रोकती है और उसको कुछ नेग दिया जाता है यह नेग ।
 द्वारपंडित—(सं. पुं.) किसी राजा के दरबार का पण्डित ।
 द्वारप—(सं. पुं.) द्वारपाल, विष्णु ।
 द्वारपति, द्वारपाल—(सं. पुं.) प्रतिहारी, दरवान, कुत्ता ।
 द्वारपालक—(सं. पुं.) द्वारपाल, दरवान ।
 द्वारपिंडी—(सं. स्त्री.) देहली, डचोड़ी ।
 द्वारपूजा—(हि. स्त्री.) विवाह को एक रीति जो कन्यावाले के द्वार पर तब की जाती है जब वर वारात के साथ पहले-पहल कन्यावाले के घर जाता है ।
 द्वारयंत्र—(सं. पुं.) तालक, ताला ।
 द्वारवती—(सं. स्त्री.) द्वारकापुरी ।
 द्वारवर्त्म—(सं. पुं.) द्वार, फाटक ।
 द्वारवृत्त—(सं. पुं.) काली पीपल ।
 द्वारशाखा—(सं. स्त्री.) द्वार का भाग ।
 द्वारसमुद्र—(सं. पुं.) कर्नाटक के प्राचीन राजाओं की राजधानी का नाम ।
 द्वारस्तंभ—(सं. पुं.) द्वार पर का खंभा ।
 द्वारस्थ—(सं. वि.) द्वार पर बैठा हुआ; (पुं.) द्वारपाल ।
 द्वारा—(हि. पुं.) फाटक, मार्ग; (अव्य.) साधन से ।
 द्वाराधिप—(सं. पुं.) द्वार का मालिक ।
 द्वाराध्यक्ष—(सं. पुं.) द्वारपाल, डचोड़ीदार ।
 द्वारावती—(सं. स्त्री.) द्वारिकापुरी ।
 द्वारिक—(सं. पुं.) द्वारपाल, डचोड़ीदार ।
 द्वारिका—(सं. स्त्री.) द्वारिकापुरी ।
 द्वारी—(हि. स्त्री.) छोटा द्वार; (सं. पुं.) द्वारपाल ।
 द्वारस्थ—(सं. पुं.) द्वारपाल, दरवान ।
 द्वारस्थित—(सं. पुं.) द्वारपाल, डचोड़ीदार ।
 द्वि—(सं. वि.) द्वित्व, दो संख्या का, दो ।
 द्विक—(सं. वि.) द्वय, दो, दूसरा, दो-बारा, जिसमें दो अवयव हों; (पुं.) कौवा, चकवा ।
 द्विकुद—(सं. पुं.) उच्छ्र, ऊट ।
 द्विकर—(सं. पुं.) दो मुजा, दो हाथ ।
 द्विकर्मक—(सं. वि.) वह क्रिया जिसमें दो

कर्म हों ।
 द्विकल—(सं. पुं.) छन्दःशास्त्र में दो मात्राओं का समूह ।
 द्विक्षार—(सं. पुं.) सौरा और सज्जीखार ।
 द्विगु—(सं. वि.) दो गी-संबंधी, जिसके पास दो गायें हों; (पुं.) वह कर्मधारय समास जिसका पूर्वपद संख्यावाचक शब्द हो ।
 द्विगुण—(सं. पुं.) दुगना, दूना ।
 द्विगुणाकृत—(सं. वि.) दोबारा जोती हुई (भूमि); दो बार गुणा किया हुआ ।
 द्विगुणित—(सं. वि.) दो से गुणा किया हुआ, दुगना, दूना ।
 द्विचक्र—(सं. पुं.) एक असुर का नाम; (वि.) जिसमें दो पहिये हों । -
 द्विचरण—(सं. वि.) दो पैरोंवाला ।
 द्विज—(सं. पुं.) वह ब्राह्मण जिसका संस्कार हुआ हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिसका उपनयन संस्कार हुआ हो; अण्डज प्राणी, पक्षी, सर्प; चन्द्रमा, (वि.) जिसका दो बार जन्म होता हो; -त्व—(पुं.) द्विज का धर्म या भाव; -वास—(पुं.) द्विजों की सेवा करनेवाला; -पति—(पुं.) द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण, चन्द्रमा, गरुड़, कपूर; -प्रपा—(स्त्री.) पानी देने के लिए पेड़ की जड़ के चारों ओर खोदा हुआ गड्ढा, आलवाल; -प्रिया—(स्त्री.) सोमलता (वि.) जो द्विज को प्रिय हो; -बंधु—(पुं.) संस्कारहीन द्विज, केवल नाममात्र का द्विज; -राज—(पुं.) देखें 'द्विजपति'; -वर—(पुं.) द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण; -वाहन—(पुं.) नारायण, विष्णु; -व्रण—(पुं.) दाँत का एक रोग; -श्रेष्ठ—(वि.) श्रेष्ठ ब्राह्मण; सत्तम—(पुं.) द्विजों में श्रेष्ठ; -सेवक—(पुं.) द्विजोंकी सेवा करनेवाला ।
 द्विजर्षभ—(सं. पुं.) द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण ।
 द्विजन्मा—(सं. पुं.) ब्राह्मण, दाँत, पक्षी, क्षत्रिय, वैश्य; (वि.) जिसका दो बार जन्म हुआ हो ।
 द्विजा—(सं. स्त्री.) भंगरैया, पालक का शाक ।
 द्विजांगिका—(सं. स्त्री.) कुटकी ।
 द्विजाग्रह—(सं. पुं.) ब्राह्मण ।
 द्विजाति—(सं. पुं.) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य; अण्डज, दाँत, पक्षी ।
 द्विजातिमख—(सं. वि.) ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ।
 द्विजानि—(सं. पुं.) वह पुरुष जिसके दो पत्नियाँ हों ।
 द्विजायनी—(सं. स्त्री.) यशोपवीत, जनेऊ ।

द्विजालय—(सं. पुं.) कोटर, वृक्ष का वह पोला भाग जिसमें पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, ब्राह्मणों का घर ।
 द्विजिह्व—(सं. पुं.) सर्प, साँप, पिशुन दुष्ट, चोर, एक प्रकार का रोग; (वि.) जिसको दो जीभ हों ।
 द्विजेंद्र, द्विजेश—(सं. पुं.) द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण, चन्द्रमा, गरुड़, कपूर ।
 द्विजोत्तम—(सं. पुं.) ब्राह्मण ।
 द्विजोपासक—(सं. पुं.) द्विजसेवक, सूद्र ।
 द्विद्वेवा—(सं. स्त्री.) शत्रु की सेवा ।
 द्विद्वेवी—(सं. वि.) राज्यशत्रु, वह जो राज्य के शत्रु से मिला हो ।
 द्वित—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
 द्वितय—(सं. पुं.) दो की संख्या; (वि.) दोहरा ।
 द्वितीय—(सं. वि.) दूसरा; (पुं.) पुत्र, बेटा ।
 द्वितीयक—(सं. पुं.) प्रति दूसरे दिन आनेवाला ज्वर; (वि.) दूसरा, द्वितीय ।
 द्वितीया—(सं. स्त्री.) स्त्री, गेहिनी, प्रत्येक पक्ष की दूसरी तिथि ।
 द्वितीयाभा—(सं. स्त्री.) दारु-हलदी ।
 द्वितीयाश्रम—(सं. पुं.) गृहस्थ आश्रम ।
 द्वित्र—(सं. वि.) दो या तीन ।
 द्वित्व—(सं. पुं.) दोहरा होने का भाव ।
 द्विदल—(सं. वि.) जिसमें दो दल या पिण्ड हों, दो पत्तोंवाला, दो पंखड़ियोंवाला; (पुं.) वह अन्न जिसमें दो दल हों, दाल ।
 द्विदश—(सं. वि., पुं.) बीस की संख्या का, बीस, २० ।
 द्विदिव—(सं. पुं.) दो दिनों में समाप्त होनेवाला यज्ञ ।
 द्विदेह—(सं. पुं.) गणेश ।
 द्विधा—(सं. अव्य.) दो प्रकार से, दो तरह से, दो टुकड़ों में; -गति—(स्त्री.) शिशुमार, घड़ियाल; (वि.) जिसकी गति दो प्रकार की हो ।
 द्विधातु—(सं. स्त्री.) दो धातुओं के मेल से बनी हुई कोई धातु ।
 द्विधात्मक—(सं. पुं.) जातिकोप, जायफल ।
 द्विपालेय—(सं. वि.) जो दो प्रकार से लिखा जा सके ।
 द्विप—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी, नागकेशर ।
 द्विपक्ष—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, एक महीना; (वि.) जिसके दो पक्ष हों, दो पक्षोंवाला
 द्विपत्रक—(सं. पुं.) द्विदल कमल ।
 द्विपथ—(सं. पुं.) दो मार्ग ।
 द्विपद—(सं. पुं.) मनुष्य, पक्षी, दो पैर ।
 द्विपदा—(सं. स्त्री.) वह ऋचा जिसमें केवल दो पाद हों ।

द्विपदिका—(सं.स्त्री.) एक प्रकार का गीत ।
 द्विपदी—(सं. स्त्री.) दो पदों का गीत, वह छन्द जिसमें दो पद हों, चित्रकाव्य का एक भेद ।
 द्विपमद—(सं. पुं.) हाथी का मद ।
 द्विपर्णी—(सं.स्त्री.) एक प्रकार का जंगली बैर का वृक्ष ।
 द्विपाद—(सं. पुं.) मनुष्य, पक्षी; (वि.) जिसको दो पैर हों ।
 द्विपाधिय—(सं. पुं.) गजश्रेष्ठ, ऐरावत ।
 द्विपायी—(सं. पुं.) गज, हाथी ।
 द्विपात्य—(सं. पुं.) गणेश ।
 द्विपुरी—(सं. स्त्री.) मल्लिका, चमेली ।
 द्विवधु—(सं.पुं.) दो लोकों का वधु, अग्नि ।
 द्विवाहु—(सं. पुं.) मनुष्य आदि दो बाहु वाले जीव; (वि.) जिसके दो बाहु हों ।
 द्विभाग—(सं. पुं.) दो भाग, दो अंश ।
 द्विभाव—(सं.वि.) दुष्ट स्वभाव का, कपटी ।
 द्विभाषी—(सं. पुं.) दो भाषाएँ जाननेवाला मनुष्य ।
 द्विभुज—(सं. वि.) दो हाथोंवाला ।
 द्विभूम—(सं. पुं.) दो खण्डों का घर ।
 द्विमातृ—(सं. पुं.) जरासन्ध का नाम ।
 द्विमातृज—(सं. पुं.) गणेश, जरासन्ध ।
 द्विमात्र—(सं. पुं.) दीर्घ स्वर ।
 द्विमास्य—(सं. वि.) दो महीने के वय का ।
 द्विमुख—(सं. पुं.) गौ, गाय, जोंक दो मुँहवाला सर्प, (वि.) जिसके दो मुख हों ।
 द्विमुखी—(सं.वि.) दो मुँहवाली; (स्त्री.) वह गाय जो वच्चा दे रही हो ।
 द्विर—(सं. पुं.) भौंरा, शहद की मकली ।
 द्विरद—(सं. पुं.) हाथी, दुर्योधन के एक भाई का नाम; (वि.) दो दाँतोंवाला ।
 द्विरदांतक—(सं. पुं.) सिंह, शेर ।
 द्विरदाशन—(सं.पुं.) अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष ।
 द्विरभ्यस्त—(सं. वि.) द्विगुणित, दुगना ।
 द्विरशन—(सं. पुं.) दो बार भोजन ।
 द्विरसन—(सं. पुं.) सर्प, साँप ।
 द्विरागमन—(सं. पुं.) विवाह के बाद वधू का पिता के घर से दूसरी बार पति के घर आना ।
 द्विरात्र—(सं. पुं.) दो रातों में होनेवाला यज्ञ, दो रात ।
 द्विरात्रीण—(सं.वि.) दो रातों में होनेवाला ।
 द्विराप—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी ।
 द्विषन्त—(सं. वि.) दो बार कहा हुआ ।
 द्विषित—(सं. स्त्री.) दो बार कथन ।
 द्विष्ठा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका विवाह पहिले एक पति से तथा दुवारा दूसरे पति से हुआ हो ।

द्विरेतस्—(सं. पुं.) खच्चर, दोगला ।
 द्विरेफ—(सं. पुं.) भ्रमर, भौरा ।
 द्विर्वचन—(सं. पुं.) दो बार कथन ।
 द्विलक्षण—(सं. वि.) दो तरह का ।
 द्विवचन—(सं.पुं.) संस्कृत व्याकरण में किसी शब्द का वह रूप जो दो व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के लिए प्रयोग किया जाता है ।
 द्विवाहिका—(सं. स्त्री.) हिंडोला, झूला ।
 द्विविंदु—(सं. पुं.) विसर्ग का चिह्न ।
 द्विविद—(सं. पुं.) रामचन्द्र की सेना के एक वन्दर का नाम ।
 द्विविध—(सं.वि.) दो प्रकार का, दो तरह का ।
 द्विवेद—(सं. वि.) दो वेदों को पढ़नेवाला ।
 द्विवेदी—(सं. पुं.) ब्राह्मणों की एक उपजाति, दूबे ।
 द्विशफ—(सं. पुं.) वह पशु जिसका खुर फटा हो ।
 द्विशाल—(सं. वि.) जिसमें दो कोठरियाँ हों, दो दिशाओं में बना हुआ ।
 द्विशोर्ष—(सं. पुं.) अग्नि, आग; (वि.) जिसके दो सिर हों ।
 द्विश्रृंगी—(सं. वि.) जिसके दो सींग हों ।
 द्विषंतप—(सं. वि.) शत्रु को पीड़ा पहुँचानेवाला ।
 द्विप—(सं. पुं.) वैरी, शत्रु; (वि.) विरोध या द्वेष करनेवाला ।
 द्विपन—(हिं. पुं.) शत्रु, वैरी ।
 द्विषा—(सं. स्त्री.) एला, इलायची ।
 द्विवेष्य—(सं. वि.) ईर्ष्यालु, द्वेष करने का जिसका स्वभाव हो ।
 द्विषम—(सं. वि.) दो वर्ष का ।
 द्विसहलाक्ष—(सं. पुं.) अनन्त, जिसके दो हजार नेत्र हैं ।
 द्विसीत्य—(सं. वि.) वह खेत जो दो बार जोता गया हो ।
 द्विहन्—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी ।
 द्विहल्य—(सं. वि.) वह खेत जो दो बार जोता गया हो ।
 द्विहायन—(सं. पुं.) दो साल का बछवा ।
 द्विहृदया—(सं. स्त्री.) गर्भवती स्त्री ।
 द्वौद्रिय—(सं. पुं.) वह प्राणी जिसके केवल दो ही इन्द्रियाँ हों ।
 द्वीप—(सं. पुं.) भूमि का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, टापू, अवलंबका स्थान, आधार, कंकलि वृक्ष, व्याघ्रचर्म, वाघ का चमड़ा ।
 द्वीपवती—(सं. स्त्री.) भूमि, जमीन ।
 द्वीपशत्रु, द्वीपिका—(सं.पुं.,स्त्री.) सतावर ।
 द्वीपिनख—(सं. पुं.) व्याघ्रनख, वाघ का

नाखून ।
 द्वेषा—(सं. अव्य.) दो प्रकार से ।
 द्वेष—(सं. पुं.) शत्रुता, बैर, विरोध ।
 द्वेषण—(सं. पुं.) शत्रु ।
 द्वेषी—(सं. वि.) द्वेष करनेवाला, विरोध करनेवाला ।
 द्वेष्टा—(सं.वि.) द्वेषी, विरोध करनेवाला ।
 द्वेष्य—(सं. वि.) जिससे द्वेष किया जाय ।
 द्वेगुणिक—(सं. पुं.) दूना व्याज लेनेवाला ।
 द्वैज—(हिं. स्त्री.) द्वितीया, दूज ।
 द्वैत—(सं.पुं.) द्वय, युगल, दो का भाव, भेद, अन्तर, भ्रम, अज्ञान, दुविधा, द्विभाव, भेदभाव, अपने और पराये का भाव ।
 द्वैतवन—(सं. पुं.) वह तपोवन जिसमें युधिष्ठिर ने वनवास के समय कुछ दिनों तक निवास किया था ।
 द्वैतवाद—(सं. पुं.) वह दार्शनिक सिद्धांत जो जीव और ईश्वर को अलग-अलग मानता है : (प्रायः सभी दर्शन-शास्त्रों में द्वैतवाद का उपदेश दिया गया है । द्वैतवादी जीव-चैतन्य को ब्रह्म-चैतन्य से पृथक् मानते हैं ।)
 द्वैतवादी—(सं. वि.) ईश्वर और जीव में भेद माननेवाला ।
 द्वैध—(सं. अव्य.) दो प्रकार से; (वि.) परस्पर का विरोध ।
 द्वैधीभाव—(सं. पुं.) परस्पर विरोध ।
 द्वैप—(सं.पुं.) व्याघ्रचर्म, वाघ का चमड़ा ।
 द्वैपायन—(सं. पुं.) वेदव्यास ।
 द्वैष्य—(सं. वि.) द्वीप-संबंधी ।
 द्वभाव्य—(सं.वि.) जो दो भागों में विभक्त हो ।
 द्वैमातुर—(सं. पुं.) जरासन्ध, गणेश ।
 द्वैमातृक—(सं.पुं.) वह भूमि जिसमें नदी के जल से तथा वर्षा के जल से खेती होती है ।
 द्वैरथ—(सं.पुं.) दो रथों द्वारा होनेवाला युद्ध ।
 द्वैराज्य—(सं.पुं.) वह राज्य जो दो राजाओं के अधीन हो ।
 द्वैविध्य—(सं. पुं.) भ्रम, दुविधा ।
 द्वौ—(हिं. वि.) दोनों ।
 द्वयर्थ, द्वयर्थक—(सं. वि.) जिस शब्द के दो अर्थ हों ।

ध

ध—हिन्दी तथा संस्कृत वर्णमाला का उन्नीसवाँ व्यंजन तथा तवर्ग का चौथा अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान दन्तमूल है ।
 धंगर—(हिं. पुं.) ग्वाल, अहीर, चरवाहा, एक प्रकार का धारीदार कपड़ा ।

धंध, धंधक—(हि. पुं.) जंजाल, वखेड़ा, काम-धन्ध का दिखाव, एक प्रकार का ढोल; —**धोरी**—(पुं.) अपन ऊपर काम-धंधे का बोझ लादनेवाला व्यक्ति ।

धंधरक—(हि. पुं.) काम-धंधे का आडम्बर, वखेड़ा; —**धोरी**—(पुं.) देखें 'धंधकधोरी' ।

धंधला—(हि. पुं.) झूठा आडम्बर, ढोंग, वहाना ।

धंधलाना—(हि. क्रि. अ.) झूठा आडम्बर रचना, ढंग करना ।

धंधा—(हि. पुं.) काम या धन कमाने की इच्छा से उद्योग करना, व्यवसाय, काम-काज, उद्यम ।

धंधार—(हि. पुं.) भारी पत्थर, लकड़ी आदि उठाने का एक प्रकार का साधन ।

धंधारी—(हि. स्त्री.) गोरखधंधा जिसको गोरखपंथी साधु लिये रहते हैं ।

धंधाला—(हि. स्त्री.) दूती, कुटनी ।

धंधोर—(हि. पुं.) होलिका, होली, ज्वाला, आग की लपट ।

धंधना—(हि. क्रि. स.) धौंकना ।

धंधस—(हि. पुं.) डुबकी, गोता ।

धंधसन—(हि. स्त्री.) धंधसने की क्रिया, गति, चाल ।

धंधसना—(हि. क्रि. अ.) किसी कड़ी वस्तु का कोमल वस्तु के भीतर घुसना, गड़ना, पैठ जाना, खड़ी वस्तु का भूमि के भीतर चला जाना, चुभना, पैठना, नीचे खसकना या उतरना, नष्ट होना, बैठ जाना; (मुहा.) **मन में धंधसना**—चित्त पर प्रभाव करना ।

धंधसनि—(हि. स्त्री.) देखें 'धंधसन' ।

धंधसान—(हि. स्त्री.) धंधसने की क्रिया या ढंग, ढार, उतार, दलदल ।

धंधसाना—(हि. क्रि. स.) गड़ाना, चुभाना, प्रवेश कराना, पैठाना, जमीन में गड़ाना ।

धंधसाव—(हि. पुं.) धंधसने की क्रिया, दलदल ।

धंधक—(हि. स्त्री.) हृदय धड़कने का भाव या शब्द, उमंग, उद्वेग, छोटा जूँ; (अव्य.) अचानक; (मुहा.) कलेजा धंधक होना—किसी प्रकार के उद्वेग के कारण कलेजा धड़कना ।

धंधकधकाना—(हि. क्रि. अ.) हृदय-गति का उद्वेग के कारण शीघ्रता या वेग से चलना, दहकना, भमकना, अग्नि का लपट के साथ जलना ।

धंधकधकहट—(हि. स्त्री.) धंधकधक करने की क्रिया या भाव, आशंका, धडकन, खटका ।

धंधकधकी—(हि. स्त्री.) धंधकधक करने की

क्रिया, हृदय की धड़कन ।

धंधकधक—(हि. स्त्री.) कलेजे की धड़कन; (अव्य.) डरते हुए ।

धंधकधकाना—(हि. क्रि. अ.) डरना, दहलना, भय खाना ।

धंधकधकपेल—(हि. स्त्री.) धंधकाधककी ।

धंधकार—(सं. पुं.) 'ध' अक्षर ।

धंधका—(हि. पुं.) देखें 'धंधका' ।

धंधकाना—(हि. क्रि. स.) धंधकाना, आग सुलगाना ।

धंधकारा—(हि. पुं.) सन्देह, भय ।

धंधकियाना—(हि. क्रि. स.) धंधका देना, ढकेलना ।

धंधकेलना—(हि. क्रि. स.) ठेलना, धंधका देना ।

धंधकेलू—(हि. पुं.) धंधका देनेवाला, ढकेलनेवाला ।

धंधकैत—(हि. वि.) धंधका देनेवाला ।

धंधकधकधक—(हि. स्त्री.) देखें 'धंधकधक' ।

धंधकधकधकका—(हि. पुं.) बहुत से मनुष्यों का आपस में धंधका देने का कार्य, भारी भीड़ में मनुष्यों का परस्पर शरीर से शरीर रगड़ना जाना ।

धंधका—(हि. पुं.) आघात, टक्कर, झोंका, ऐसी बड़ी भीड़ जिसमें मनुष्यों का शरीर आपस में रगड़ खाता हो, ढकेलने की क्रिया, आपत्ति, विपत्ति, सन्ताप, हाति, टोटा, मल्लयुद्ध की एक युक्ति; —**मुक्की**—(स्त्री.) मूठभेड़, मारपीट ।

धंधगड़, धंधगड़ा—(हि. पुं.) उपपत्ति, जार ।

धंधगड़वाज—(हि. वि. स्त्री.) व्यभिचारिणी, कुलटा ।

धंधगड़ी—(हि. स्त्री.) कुलटा स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री ।

धंधगरा—(हि. पुं.) देखें 'धंधगड़ा' ।

धंधगरिन—(हि. स्त्री.) बच्चे का नाल काटनेवाली स्त्री ।

धंधगरी, धंधगरी—(हि. वि.) पति की मुंह-लगी, धंधगड़ी, कुलटा, छिनाल ।

धंधगड़—(हि. पुं.) देखें 'धंधगड़' ।

धंधकका—(हि. पुं.) आघात, धंधका, झोंका ।

धंधज—(सं. स्त्री.) सुन्दर रचना, सुन्दर ढंग, बैठने-उठन का ढंग, आकृति, शोभा, चालढाल; **सज-धंधज**—(स्त्री.) तैयारी ।

धंधजवड़—(हि. स्त्री.) खड्ग, तलवार ।

धंधजा—(हि. स्त्री.) ध्वजा, पताका, झंडा, आकृति, कपड़े की चीर ।

धंधजीला—(हि. वि.) सुन्दर ढंग का, सजीला, तरहदार ।

धंधज्जी—(हि. स्त्री.) कपड़ा या कागज का लंबा पतला टुकड़ा, लोहे की चद्दर या

लकड़ी की पतली चीर या पट्टी; (मुहा.)—**उड़ाना**—विदीर्ण करना, टुकड़े-टुकड़े करना ।

धंधट—(सं. पुं.) तुला, धंध का पेड़ ।

धंधटक—(सं. पुं.) एक प्राचीन परिमाण जो बयालीस रत्तियों के बराबर होता था ।

धंधटकर्कट—(सं. पुं.) एक प्रकार की मुड़ी हुई लोहे की कील ।

धंधटपरीक्षा—(सं. स्त्री.) देखें 'तुलापरीक्षा' ।

धंधटिका—(सं. स्त्री.) एक प्राचीन परिमाण जो पाँच सेर के बराबर होता था, कौपीन, लंगोट, चीर ।

धंधटी—(सं. स्त्री.) कपड़े की चीर, कौपीन ।

धंधङग—(हि. वि.) वस्त्रहीन, तंगा ।

धंधड़—(हि. पुं.) शरीर का विचला मोटा भाग जिसके अन्तर्गत छाती, पीठ और पेट होते हैं, कमर के ऊपर का भाग, वृक्ष का जड़ से ऊपर का मोटा भाग, तना, पेड़ी, किसी वस्तु का भूमि पर वेग से गिरने का शब्द ।

धंधड़क—(हि. स्त्री.) हृदय का स्पन्दन, हृदय के स्पन्दन का शब्द, खटका, हिचक, भय; **बे-धंधड़क**—(अव्य.) विना किसी संकोच या रुकावट के ।

धंधड़कन—(हि. स्त्री.) हृदय का स्पन्दन, कलेजे का धंधकधक करना ।

धंधड़कना—(हि. क्रि. अ.) हृदय का स्पन्दन करना या धंधकधक करना, धंधड़क शब्द करना; (मुहा.) **दिल धंधड़कना**—किसी भय या आशंका से हृदय-गति का वेग से चलना ।

धंधड़का—(हि. पुं.) हृदय की धंधकन का शब्द, खटका, अंदेशा गिरने आदि का शब्द, चिड़ियों को डराने के लिये खेत में डंडे के ऊपर उलटी रखी हुई काली हाँड़ी, घोखा ।

धंधड़काना—(हि. क्रि. स.) हृदय में धंधकन उत्पन्न करना, दहलाना, उराना, धंध-धंध शब्द उत्पन्न करना ।

धंधड़कका—(हि. पुं.) देखें 'धंधका' ।

धंधड़ट्टा—(हि. वि.) जिसकी कमर झुक गई हो, कुबड़ा ।

धंधड़-धंधड़—(हि. स्त्री.) गाड़ी, मोटर आदि के चलने से उत्पन्न तीव्र शब्द; (अव्य.) विना रुकावट के, बेधंधक, धंधड़क शब्द करते हुए ।

धंधड़गड़ाना—(हि. क्रि. अ.) धंधड़क शब्द करना ।

धंधड़टा—(हि. वि.) जिसकी कमर झुक गई हो, कुबड़ा ।

धड़ल्ला—(हि. पुं.) धड़धड़ शब्द, धड़का, मीडमाड़, धूमधाम, बड़ी भीड़; धड़ल्ले से—(अव्य.) झोंक से, वेग से, वेधड़क।
 धड़वा—(हि. पुं.) एक प्रकार की मीना चिड़िया।
 धड़वाई—(हि. पुं.) सौदा, माल आदि तोलने वाला।
 धड़ा—(हि. पुं.) तराजू के पलड़े पर किसी पात्र आदि का भार बराबर करने की क्रिया, वाट, बटखरा, तुला, तराजू, चार सेर की तोल (मुहा.)—वाँधना—तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर कर लेना।
 धड़ाका—(हि. पुं.) धड़धड़ शब्द; धड़ाके से—(अव्य.) झटपट।
 धड़ाधड़—(हि. अव्य.) धड़धड़ शब्द के साथ, बिना रुकावट के, शीघ्रता से।
 धड़ा-बंदी—(हि. स्त्री.) धड़ा वाँधने का काम, समभार या समशक्ति करने की क्रिया।
 धड़ाम—(हि. पुं.) वह शब्द जो किसी वस्तु के जोर से गिरने उत्पन्न होता है, किसी वस्तु के गिरने का शब्द।
 धड़ी—(हि. स्त्री.) चार या पाँच सेर की तोल, धरी।
 धत—(हि. स्त्री.) बुरा अभ्यास, बुरी लत।
 धतकारना—(हि. क्रि. स.) तिरस्कार के साथ हटाना, धिक्कारना, दुरदुराना।
 धता—(हि. वि.) दूर किया हुआ, हटाया हुआ; (मुहा.)—करना—हटाना, भगा देना।
 धतिया—(हि. वि.) बुरे स्वभाव का, कुटेव का।
 धतीगड़, धतीगड़ा—(हि. पुं.) मोटा मनुष्य।
 धतूर—(हि. पुं.) सिंहा, तुरही, धतूरा।
 धतूरा—(हि. पुं.) एक पौधा जिसके गोल फल के ऊपर कांटे होते हैं, इसका बीज बड़ा विषैला होता है; (मुहा.)—खाकर फिरना—पागल की तरह धूमना।
 धतूरिया—(हि. पुं.) ठगों का एक सम्प्रदाय जो पथिकों को लूटने के लिये उनको धतूरा खिलाकर बेहोश कर देते थे।
 धत्—(हि. अव्य.) तिरस्कार के साथ हटाने का शब्द, दुत्कारने का शब्द।
 धत्ता—(हि. पुं.) एक प्रकार का छन्द जो दो पंक्तियों में लिखा जाता है।
 धत्तूर—(सं. पुं.) धतूरा।
 धधक—(हि. स्त्री.) आग की लपट का ऊपर को उठना, लौ, आँच की भड़क।
 धधकना—(हि. क्रि. प्र.) आग का लपट के साथ जलना, भड़कना, दहकना।

धधकाना—(हि. क्रि. स.) अग्नि को प्रज्वलित करना, दहकाना।
 धन—(सं. पुं.) द्रव्य, सम्पत्ति, स्नेहपात्र, अति प्रिय वस्तु जो किसी के पास हो, पूंजी, गणित में जोड़ का (+) चिह्न, चौपायों का समूह; (स्त्री.) जवान स्त्री, वधू, बहू; (हि. वि.) देखें 'धन्य'।
 धनक—(सं. पुं.) धन की कामना, धन की इच्छा; (हि. पुं.) धनुष, ब्रह्मान, एक प्रकार की ओढ़नी, टोपी में लगाने का गोटा।
 धनकटी—(हि. स्त्री.) धान काटने का समय, एक प्रकार का वस्त्र।
 धनकर—(हि. पुं.) एक प्रकार की कड़ी मिट्टी जिसमें धान खूब होता है, धान का खेत।
 धनकुट्टी—(हि. स्त्री.) धान कूटने का काम, धान कूटने का उपकरण, एक प्रकार का कीड़ा।
 धनकुबेर—(हि. पुं.) कुबेर के समान धनी, अति धनाढ्य मनुष्य।
 धनकेलि—(सं. पुं.) कुबेर।
 धनकोटा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी पौधा जिससे कागज बनाया जाता है।
 धनक्षय—(सं. पुं.) धन का नाश।
 धनखर—(हि. पुं.) वह खेत जिसमें धान बोया जाता है।
 धनगर्व—(सं. पुं.) दौलत या धन का घमंड।
 धनगुप्त—(सं. पुं.) धन की बड़े यत्न से रक्षा करनेवाला मनुष्य।
 धनचिड़ी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पक्षी।
 धन्तेरस—(हि. स्त्री.) कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, (इस दिन लक्ष्मी का पूजन होता है।)
 धनदंड—(सं. पुं.) धनरूप में दण्ड, जुर्माना।
 धनद—(सं. पुं.) कुबेर; (वि.) धन देनेवाला।
 धनदत्त—(सं. वि.) धन देनेवाला।
 धनदा—(सं. स्त्री.) देवी का एक नाम, आश्विन कृष्णा एकादशी का नाम; (वि. स्त्री.) धन देनेवाली।
 धनदाक्षी—(सं. स्त्री.) लता करंज, पाटल का वृक्ष।
 धनदानुज—(सं. पुं.) रावण, कुम्भकर्ण आदि।
 धनदायिका—(सं. स्त्री.) एक देवी का नाम।
 धनदायी—(सं. वि.) धन देनेवाला; (पुं.) अग्नि।
 धनदिशा—(हि. पुं.) उत्तर दिशा।
 धनदेव—(सं. पुं.) धन के देवता कुबेर।
 धनधान्य—(सं. पुं.) धन और अन्न आदि

सामग्री, सम्पत्ति।
 धनधाम—(सं. पुं.) रुपया-पैसा और धन-वार।
 धनधारी—(हि. पुं.) कुबेर, बड़ा धनी मनुष्य।
 धननाथ—(सं. पुं.) धन का अधिष्ठाता कुबेर।
 धनपति—(सं. पुं.) कुबेर, शरीर की एक वायु का नाम।
 धनपत्र—(सं. पुं.) हिसाब लिखने का बही-खाता।
 धनपात्र—(सं. पुं.) धनवान्, धनी।
 धनपाल—(सं. वि.) धन की रक्षा करने-वाला; (पुं.) कुबेर।
 धनपिशाचिका—(सं. स्त्री.) धन का लोभ, धन की आशा।
 धनप्रयोग—(सं. पुं.) धन को किसी व्यापार में लगाने का काम।
 धनप्रिया—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का जामुन।
 धनमाद—(सं. पुं.) वह अग्नि जिसकी आराधना से धन प्राप्त होता है।
 धनमूल—(सं. वि.) धन का लोभी या लालची।
 धनलोभ—(सं. पुं.) धन की अभिलाषा।
 धनवंत—(हि. वि.) देखें 'धनवान्'।
 धनवती—(सं. स्त्री.) धनिष्ठा नक्षत्र; (वि. स्त्री.) धन रखनेवाली।
 धनवा—(हि. पुं.) एक प्रकार की घास।
 धनवान्—(सं. वि.) जिसके पास धन हो।
 धनसंचय—(सं. पुं.) धन इकट्ठा करना।
 धनसार—(हि. पुं.) अन्न रखने की कोठरी।
 धनसिरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की चिड़िया।
 धनसू—(सं. पुं.) धन का संचय।
 धनस्थ—(सं. वि.) धनाढ्य, धनी।
 धनस्थान—(सं. पुं.) कुण्डली में लगन से दूसरा स्थान।
 धनस्पृहा—(सं. स्त्री.) धन की अभिलाषा।
 धनस्वामी—(सं. पुं.) धनदेवता, कुबेर।
 धनहर—(सं. वि., पुं.) धन चुरानेवाला, तस्कर।
 धनहारी—(सं. वि.) दूसरे के धन का उत्तराधिकारी।
 धनहीन—(सं. वि.) निर्धन, कंगाल, दरिद्र।
 धनहृत्—(सं. वि.) धन का हरण करने-वाला।
 धना—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम, धान्यक, धनिया; (हि. स्त्री.) युवती।
 धनाकांक्षा—(सं. स्त्री.) धन की अभिलाषा।
 धनागम—(सं. पुं.) धन की प्राप्ति, धन का मिलना।
 धनाढ्य—(सं. वि.) धनवान्, मालदार।

घनाधिकारी—(सं.पुं.) कोषाध्यक्ष, मण्डारी।
 घनाधित—(सं. वि.) जो घन देकर लिया गया हो।
 घनाधिप—(सं. पुं.) कुवेर, घनरक्षक, मण्डारी।
 घनाधिपति, घनाध्यक्ष—(सं. पुं.) घन-रक्षक, कुवेर।
 घनाना—(हि.क्रि.अ.) गाय का गर्भवती होना।
 घनार्थ—(सं. अव्य.) घन के लिये।
 घनार्थी—(सं. वि.) घन चाहनेवाला।
 घनाज्ञा—(सं. स्त्री.) घन का लोभ, घन की आशा।
 घनाश्री—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम।
 घनि—(हि.स्त्री.) युवती; (वि.) देखें 'घन्य'।
 घनिक—(सं.वि.) घनी, जिसके पास घन हो।
 घनिका—(सं. स्त्री.) सच्चरित्रा स्त्री, युवती, वधु, घनी स्त्री।
 घनिता—(सं. स्त्री.) घनाढ्यता।
 घनिया—(हि. स्त्री.) एक छोटा पौधा जिसके फल सुगन्धित होते और मसालों में प्रयुक्त होते हैं, देखें 'घनिका' (युवती स्त्री)।
 घनिया माल—(हि. पुं.) गले में पहि-नने का एक प्रकार का गहना।
 घनिष्ठ—(सं. वि.) बहुत बड़ा घनी।
 घनिष्ठा—(सं. स्त्री.) सत्ताईस नक्षत्रों में से तेईसवाँ नक्षत्र।
 घनी—(सं. स्त्री.) युवती स्त्री, वधु, वधू; (हि. वि.) जिसके पास घन हो; (पुं.) घनवान् पुरुष, पति, मालिक।
 घनीयक—(सं. पुं.) घन्याक, घनिया।
 घन—(सं. पुं.) घनुष, कमान, बारह राशियों में से नवीं राशि।
 घनुआ—(हि. पुं.) घनुष, कमान, रई धुनने की धुनकी।
 घनुई—(हि. स्त्री.) छोटा घनुष।
 घनुक—(हि. पुं.) घनुष, इन्द्रघनुष।
 घनुकवाई—(हि. पुं.) एक प्रकार का वायुरोग जिसमें जबड़े बैठ जाते हैं और मुँह नहीं खुलता।
 घनुकेतकी—(सं.स्त्री.) एक प्रकार का फूल।
 घनुगुण—(सं. पुं.) घनुष की डोरी, चिल्ला।
 घनुग्रह—(सं. पुं.) घनुर्धर, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 घनुद्रुम—(सं. पुं.) वंशवृक्ष, वाँस।
 घनुर्धर—(सं. पुं.) घनुर्वारी, तीरन्दाज, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 घनुर्धारी—(सं. वि.) देख 'घनुर्धर'।
 घनुर्भूत्—(सं. पुं.) घनुर्धर।
 घनुर्मध्य—(सं. पुं.) घनुष का मध्य भाग

जिसको पकड़कर तीर छोड़ा जाता है।
 घनुर्मार्ग—(सं. पुं.) घनुष की तरह टेढ़ी रेखा; (वि.) वक्र, टेढ़ा।
 घनुर्माला—(सं. स्त्री.) मरोरफली।
 घनुर्मुख—(सं. पुं.) एक प्रकार का यज्ञ, घनुर्यज्ञ।
 घनुर्यज्ञ—(सं. पुं.) वह यज्ञ जिसको राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के निमित्त किया था।
 घनुर्यास—(सं. पुं.) सोमलता।
 घनुर्वक्त्र—(सं. पुं.) कार्तिकेय का एक अनुचर।
 घनुर्वात—(सं.पुं.) एक प्रकार का वायु-रोग जिसमें शरीर एँठ जाता है।
 घनुर्विद्या—(सं. स्त्री.) घनुष चलाने की विद्या, तीरन्दाजी।
 घनुर्वीज—(सं. पुं.) मिललातक, मिलावाँ।
 घनुर्वृक्ष—(सं.पुं.) अश्वत्थ, पीपल का पेड़।
 घनुर्वद—(सं.पुं.) घनुर्विद्या बोधक शास्त्र।
 घनुष—(सं. पुं.) कमान, चाप।
 घनुषाक्ष—(सं.पुं.) एक ऋषि का नाम।
 घनुष्कर—(सं. पुं.) घनुष बनानेवाला।
 घनुष्कोटि—(सं. पुं.) रामेश्वर के दक्षिण का एक तीर्थ।
 घनुष्पाणि—(सं. वि.) जो हाथ में घनुष लिये हो।
 घनुस्—(सं. पुं.) तीर चलाने का अस्त्र, कमान, बारह राशियों में से नवीं राशि, चार हाथ की एक नाप।
 घनुस्तंभ—(सं. पुं.) देखें 'घनुर्वात'।
 घनुहाई—(हि. स्त्री.) घनुष की लड़ाई।
 घनुहिया, घनुही—(हि. स्त्री.) लड़कों के खेलने का छोटा घनुष।
 घनेश—(सं. पुं.) घन का स्वामी, कुवेर।
 घनेश्वर—(सं. पुं.) कुवेर, विष्णु।
 घनेस—(हि. पुं.) बगुले की तरह का एक पक्षी।
 घनेश्वर्य—(सं. पुं.) घन, सम्पत्ति।
 घनेषी—(सं. वि.) घन चाहनेवाला।
 घन्ना—(हि.पुं.) देखें 'घरना'; (वि.) घन्य।
 घन्नासिका—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम।
 घन्नासेठ—(हि.पुं.) प्रसिद्ध घनिक, बहुत घनाढ्य मनुष्य।
 घन्नी—(हि. स्त्री.) गाय-बैल की एक जाति, घोड़े की एक जाति।
 घन्य—(सं. वि.) पुण्यवान्, श्लाघ्य, बढ़ाई के योग्य, जो अपने नाम, यज्ञ आदि के कारण प्रसिद्ध हो; -वाद—(पुं.) साधुवाद, प्रशंसा, कृतज्ञता-सूचक

शब्द; -व्रत—(पुं.) घन-जन के लिये किया जानेवाला व्रत।
 घन्या—(सं. स्त्री.) छोटा आमला, उप-माता, घन्याक, घनिया, मनु की एक कन्या का नाम।
 घन्याक—(सं. पुं.) घनिया।
 घन्वंतर—(सं. पुं.) चार हाथ की नाप।
 घन्वंतरि—(सं. पुं.) देवताओं के वद्य जो पुराणों के अनुसार समुद्र-मन्थन में समुद्र से निकले थे।
 घन्व—(सं. पुं.) घनुष, कमान, चाप।
 घन्वचर—(सं. पुं.) वह जो घनुष चलाकर अपनी जीविका निर्वाह करता है।
 घन्वतरु—(सं. वि.) सोमबल्ली।
 घन्वदुर्ग—(सं. पुं.) वह किला जिसके चारों ओर बहुत दूर तक मरुभूमि हो।
 घन्वन्—(सं. पुं.) घनुष, मरुदेश, आकाश।
 घन्वपति—(सं. पुं.) मरु-देश का राजा।
 घन्वसह—(सं. पुं.) घनुर्धर, योद्धा, वीर।
 घन्वा—(हि. पुं.) घनुष, कमान, चाप, मरुभूमि।
 घन्वाकार—(सं. वि.) कमान के आकार का, टेढ़ा।
 घन्वी—(सं. पुं.) घनुर्वारी, वीर, निपुण; (पुं.) विष्णु, महादेव, घनु राशि।
 घप—(हि. स्त्री.) वह शब्द जो किसी भारी वस्तु के गिरने से होता है, थप्पड़, तमाचा।
 घपना—(हि. क्रि. अ., स.) वेग से चलना, झपटना, लपकना, मारना, पीटना, धूमना, धुमाना।
 घप्पा—(हि.पुं.) धौल, थप्पड़, क्षति, हानि।
 घप्पाड़—(हि. स्त्री.) दौड़।
 घवधव—(हि. स्त्री.) किसी भारी कोमल वस्तु के गिरने का शब्द, मोटे मनुष्य के शरीर पर मारने से उत्पन्न शब्द।
 घवला—(हि. पुं.) एक प्रकार का ढीला पहनावा।
 घव्वा—(हि. पुं.) किसी वस्तु पर पड़ा हुआ ऐसा चिह्न जो देखने में बुरा लगे, कलंक, दोष; (मुहा.) नाम में घव्वा लगाना-डुर्नाम करना, कलंकित करना।
 घम—(हि. स्त्री.) किसी भारी वस्तु के गिरने का शब्द, घमाका।
 घमक—(हि. स्त्री.) किसी भारी वस्तु के गिरने का शब्द, चलने से पैर का शब्द, घमक मुनकर हृदय म कंप होनेवाला, घमाका, चोट, आघात।
 घमकना—(हि. क्रि. अ.) घम शब्द के साथ गिरना, रह-रहकर पीड़ा होना, दर्द या व्यथा

होना; (मुहा.) आ धमकाना—आ पहुँचना।
 धमकाना—(हि. क्रि. स.) मय दिखलाना, डराना, घुड़कना, डाँटना।
 धमकी—(हि. स्त्री.) त्रास या मय दिखलाने की क्रिया, धमकाने का काम, डाँट-डपट, घुड़की; (मुहा.)—में आना—मय के मारे कोई काम करना।
 धमगरेज—(हि. पुं.) उत्पात, उपद्रव, युद्ध।
 धमधम—(सं. पुं.) कुमार कार्तिकेय के गण जो पार्वती के क्रोध से उत्पन्न हुए थे; (स्त्री.) 'धम' की आवाज; (अव्य.) 'धम' शब्द के साथ।
 धमधमना—(हि. क्रि. अ., स.) धमधम शब्द करना या होना।
 धमधूसर—(हि. वि.) भद्दा मोटा आदमी।
 धमन—(सं. पुं.) हवा धौंकने का काम, नरकट, नीम का वृक्ष।
 धमना—(हि. क्रि. स.) धौंकना, फूंकना।
 धमनी—(सं. स्त्री.) नाड़ी, शरीर के भीतर की रक्त आदि का संचार करनेवाली छोटी या बड़ी नली, हरिद्रा, हलदी, ग्रीवा, गला, फूंकनी।
 धमसा—(हि. पुं.) नगाड़ा, धौंसा।
 धमाका—(हि. पुं.) किसी सारी वस्तु के गिरने का शब्द, बन्दूक का शब्द, आघात, धक्का, हाथी पर लादी जानेवाली बड़ी तोप, पथरकला बन्दूक।
 धमाचौकड़ी—(हि. स्त्री.) उपद्रव, उछल-कूद, ऊधम, कूद-फाँद, मारपीट।
 धमाधम—(हि. अव्य.) बारंबार धमधम शब्द के साथ, प्रहार के शब्दों के सहित; (स्त्री.) निरन्तर धमधम का शब्द, आघात।
 धमार—(हि. स्त्री.) उत्पात, उपद्रव, उछल-कूद, विशिष्ट प्रकार के साधुओं का दहकती आँच पर कूदने की क्रिया; (पुं.) होली में गाने का एक प्रकार का गीत।
 धमारिया—(हि. पुं.) उछल-कूद करनेवाला नट, उपद्रवी व्यक्ति; (वि.) होली में धमार गानवाला, उपद्रवी।
 धमारी—(हि. वि.) उत्पाती, उपद्रवी।
 धमाल—(हि. पुं.) देखें 'धमार'।
 धमासा—(हि. पुं.) जवासा, एक प्रकार का क्षुप।
 धमि—(सं. स्त्री.) धमनी, नाड़ी, अँतड़ी।
 धमूका—(हि. पुं.) आघात, प्रहार, धमाका, धँसा।
 धमेख—(हि. स्त्री.) (सं. धर्म) बुद्ध के काल का स्तूप जो सारनाथ में है।

धम्मन—(हि. पुं.) एक प्रकार की घास।
 धम्माल—(हि. स्त्री.) देखें 'धमार'।
 धम्मिल—(सं. स्त्री.) चोटी, जूड़ा।
 धयना—(हि. क्रि. अ.) दौड़ना, घूमना।
 धरंता—(हि. वि.) पकड़नेवाला, धरनेवाला।
 धर—(सं. पुं.) पर्वत, पहाड़, पृथ्वी, एक वसु का नाम, श्रीकृष्ण, विष्णु, व्यभिचारी पुरुष; (पुं.) कच्छप जो पृथ्वी को धारण किये हुए है; (वि.) धारक, धारण करनेवाला, धामनेवाला; —पकड़—(स्त्री.) अपराधियों को पकड़ने का काम।
 धरक—(हि. पुं.) देखें 'धड़क'।
 धरकना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'धड़कना'।
 धरण—(सं. पुं.) धारण करने की क्रिया, लोक, स्तन, धान्य, सेतु, पुल, मदार का वृक्ष।
 धरणि—(सं. स्त्री.) पृथ्वी, धमनी, नाड़ी; —ज—(पुं.) मंगलग्रह, नरकासुर, पानी का सोता जो पृथ्वी में से उत्पन्न हो; —धर—(पुं.) पर्वत, पहाड़, कच्छप, विष्णु, शिव, महादेव, शेषनाग; —रूह—(पुं.) वृक्ष।
 धरणी—(सं. स्त्री.) पृथ्वी, नाड़ी, मेदा, खैर का वृक्ष; —धर—(पुं.) देखें 'धरणिधर'; —धूत्—(पुं.) पर्वत, अनन्तनाग; —धूर—(पुं.) समुद्र, सागर; —भूत्—(पुं.) पर्वत, विष्णु, अनन्त; —सुत—(पुं.) मंगलग्रह, नरकासुर; —सुता—(स्त्री.) सीता।
 धरणीश्वर—(सं. पुं.) शिव, विष्णु, राजा।
 धरता—(हि. पुं.) ऋणी, देनदार, धारण करनेवाला, किसी कार्य का भार अपने ऊपर लेनेवाला।
 धरती—(हि. स्त्री.) धरित्री, पृथ्वी, संसार।
 धरधराना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'धड़धड़ाना'।
 धरन—(हि. स्त्री.) धरन की क्रिया या भाव, गर्भाशय को दृढ़ता से जकड़नेवाली नस, गर्भाशय, टेक, हठ, अड़, लकड़ी, लोहे आदि का लंबा लट्ठा जो धरों में छत का बोझ धामने के लिये लगाया रहता है, कड़ी, धरनी।
 धरना—(हि. क्रि. स.) इधर-उधर गिरने से बचाना, स्थैपित करना, ठहराना, रक्षा में रखना, बन्दक रखना, किसी स्त्री को रखनी की तरह रखना, पीतनेवाले रोगन, आदि किसी दूसरी वस्तु पर लगना आश्रय लेना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, आरौपित करना,

धारण करना, पहिना; (मुहा.) धरा रह जाना—काम में न आना, पड़ा रह जाना।
 धरना—(हि. पुं.) माँग पूरी न होने तक किसी के द्वार पर जाकर अड़कर बैठना।
 धरनि—(हि. स्त्री.) देखें 'धरणी'।
 धरनी—(हि. स्त्री.) देखें 'धरणी'।
 धरनेत—(हि. पुं.) धरना देनेवाला मनुष्य।
 धरम—(हि. पुं.) धर्म; —सार—(पुं.) देखें 'धर्मशाला'; —घड़ी—(स्त्री.) विजली से चलनेवाली मीनार पर लगी हुई बड़ी घड़ी।
 धरवाना—(हि. क्रि. स.) धरने का काम दूसरे से कराना, पकड़ाना, थमाना।
 धरबना—(हि. क्रि. स.) मलना, दवाना।
 धरसना—(हि. क्रि. अ.) डर जाना, दब जाना, सहम जाना, दबना।
 धरसनी—(हि. स्त्री.) देखें 'धरणी'।
 धरहर—(हि. स्त्री.) धरपकड़, रक्षा, बचाव, धैर्य, धीरज, लड़नेवालों की धर-पकड़ करके झगड़ा तय करने का काम, बीच-बचाव।
 धरहरना—(हि. क्रि. अ.) धड़धड़ शब्द करना।
 धरहरा—(हि. पुं.) धौरहरा, ऊँचा बुर्ज या मकान जिसमें ऊपर चढ़ने के लिये उसके भीतर सीढ़ियाँ बनी रहती हैं।
 धरांतरचर—(सं. वि.) पृथ्वी पर घूमनेवाला।
 धरहरिया—(हि. पुं.) बीच-बचाव करनेवाला, बचाव करनेवाला, रक्षक।
 धरा—(सं. स्त्री.) पृथ्वी, धरती, संसार, एक वर्णवृत्त का नाम; (हि. स्त्री.) बटखरा, चार सेर की तौल।
 धराऊ—(हि. वि.) बहुमूल्य वस्तु या बहुत दिनों की रखी हुई ही।
 धरातल—(सं. पुं.) धरती, पृथ्वी, सतह, क्षेत्रफल जिसमें मोटाई, गहराई या ऊँचाई का कुछ विचार नहीं किया जाता, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल।
 धरात्मज—(सं. पुं.) नरकासुर, मंगलग्रह।
 धराधर—(सं. पुं.) पर्वत, विष्णु, अनन्त, शेषनाग; (वि.) पृथ्वी की रक्षा करनेवाला।
 धराधार—(सं. पुं.) शेषनाग।
 धराधिप, धराधिपति, धराधीश—(सं. पुं.) नृप, राजा।
 धराना—(हि. क्रि. स.) स्थिर कराना, पकड़ाना, थमाना, दिन पक्का करना, ठहराना।
 धरापति—(सं. पुं.) नृप, राजा।
 धरापुत्र—(सं. पुं.) मंगलग्रह।

धराभूत—(सं. पुं.) पृथ्वी का मालिक ।
 धरानर—(सं. पुं.) ब्राह्मण ।
 धरासुर—(हिं. पुं.) ब्राह्मण ।
 धरासूनु—(सं. पुं.) नरकासुर, मंगल ग्रह ।
 धराहर—(हिं. पुं.) बरहरा ।
 धरिगा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का चावल ।
 धरित्री—(सं. स्त्री.) पृथ्वी, भूमि ।
 धरी—(हिं. स्त्री.) रखनी, कान में पहिने का एक गहना, चार सेर की तौल ।
 धरुण—(सं. पुं.) जल, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, ब्रह्मा, स्वर्ग, इक्कीस की संख्या ।
 धरेल—(हिं. स्त्री.) रखेली, रखनी ।
 धरेला (ली)—(हिं. पुं.) वह पति जिसको कोई स्त्री बिना व्याह किये ग्रहण कर ले ।
 धरैया—(हिं. वि.) धरने या पकड़नेवाला ।
 धरोत्तम—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 धरोहर—(हिं. स्त्री.) न्यास, थाती, वह द्रव्य जो किसी के पास इस विश्वास पर रखा जाय कि जब उसका मालिक उसको माँगगा तब वह उसको लौटा देगा ।
 धरौवा—(हिं. पुं.) स्त्री को बिना व्याह किये रख लेने की चाल ।
 धर्णि—(सं. वि.) धारण करनेवाला ।
 धर्तव्य—(सं. वि.) पकड़ने योग्य, धरने योग्य, रहने योग्य, गिरने योग्य ।
 धर्ता—(सं. पुं.) धारण करनेवाला, अपने ऊपर किसी प्रकार का भार लेनेवाला ।
 धर्तुर—(सं. पुं.) धर्तुरा ।
 धर्म—(सं. पुं.) सुकृत, सत्कर्म, पुण्य, सदाचार, वह आचरण जिससे समाज की रक्षा और कल्याण हो, सुखशान्ति की वृद्धि हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो, कर्तव्य, मन की वृत्ति, इन्द्रियों का कार्य, गुण या क्रिया, पदार्थ का गुण, विशेषता आदि का भेद, कोई विशिष्ट लक्षण या तत्त्व, प्रकृति, स्वभाव, नित्य-नियम, अलंकार में उपमेय तथा उपमान में समान रूप से रहनेवाला गुण, विवेक, न्याय की व्यवस्था, नीतिमत, संप्रदाय, पंथ, उपासना का भेद; (मुहा.)
 -कमाना—धर्म करके उसके उत्तम फल प्राप्त करना; -विनाड़ना—धर्म-भ्रष्ट करना; -से कहना—सच्ची बात कहना; -कथक—(पुं.) धर्म का उपदेश देनेवाला; -कर्म—(पुं.) वह कर्म जिसका करना किसी धर्म-ग्रन्थ में आवश्यक बतलाया गया हो; -काय—(पुं.) बुद्धदेव; -कार—(पुं.) धर्म-शास्त्रकार; -कार्य—(पुं.) धर्मकर्म; -कूप—(पुं.) एक तीर्थ का नाम;

-कृत—(वि.) धर्म करनेवाला; (पुं.) विष्णु; -केतु—(पुं.) बुद्धदेव; -कोप—(पुं.) धर्मसदृश रक्षणीय वस्तु; -क्षेत्र—(पुं.) कर्मभूमि, भारतवर्ष, कुरुक्षेत्र; -गुप्त—(पुं.) विष्णु; (वि.) धर्म-रक्षक; -ग्रंथ—(पुं.) वह ग्रन्थ जिसमें जन-समाज के आचार, व्यवहार तथा उपासना आदि विषयों की शिक्षा दी गई हो; -घट—(पुं.) धर्मार्थ दान करने का घड़ा; -घ्न—(वि.) धर्मद्वेषी, धर्मनाशक; -चक्र—(पुं.) धर्मसमूह, धर्म का ढेर, प्राचीन काल का एक प्रकार का अस्त्र; -चर्या—(स्त्री.) धर्म का अनुष्ठान; -चारिणी—(स्त्री.) सहधर्मिणी, जाया; -चारो—(वि.) धर्म का आचरण करनेवाला; -चितक—(वि.) धर्म-संबंधी बातों का विचार करनेवाला; -चिता—(स्त्री.) धर्म-विषयक विचार; -ज—(पुं.) धर्मपत्नी से उत्पन्न प्रथम औरस पुत्र; -जन्मा—(पुं.) युधिष्ठिर; -जन्मा—(वि.) धर्म से उत्पन्न होनेवाला (सुख); -जिज्ञासा—(स्त्री.) धर्म के विषय में सन्देह उत्पन्न होने पर वेद वाक्य द्वारा धर्म की भीमांसा; -जीवन—(पुं.) वह ब्राह्मण जो धर्म-कृत्य कराके जीविका निर्वाह करता है; -ज्ञ—(वि.) धर्म को जाननेवाला; (पुं.) युधिष्ठिर; -तः—(अव्य.) धर्म का ध्यान रखते हुए, धर्म को साक्षी मानकर; -तत्त्व—(पुं.) धर्म का गुप्त मर्म; -द—(वि.) धर्मोत्थानक, धर्म देनेवाला; -दान—(पुं.) वह दान जो धर्म समझकर किया जाय; -दारा—(स्त्री.) धर्म-पत्नी; -द्रोही—(पुं.) धर्म का द्रोही, राक्षस; -द्वेषी—(पुं.) धर्मद्रोही, राक्षस; -धातु—(पुं.) बुद्धदेव; -ध्वज—(पुं.) मिथिला देश के जनक वंश के एक राजा जो परम ज्ञानी थे, वह मनुष्य जो धर्म का आडंबर रचकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है; -ध्वजी—(वि.) पाखण्डी; -नंदन—(पुं.) धर्मपुत्र, युधिष्ठिर; -निष्ठ—(वि.) धार्मिक; -निष्ठा—(स्त्री.) धर्म में विश्वास; -नीति—(स्त्री.) वह शास्त्र जिसमें कर्तव्याकर्तव्य तथा उसके फलाफल का विचार हो; -पट्ट—(पुं.) वह व्यवस्था-पत्र जो किसी राजा या धर्माधिकारी की ओर से दिया जाय; -पति—(पुं.) वरुण देवता; -पत्नी—(स्त्री.) विवा-

हिता स्त्री, वह स्त्री जिसके साथ धर्म शास्त्र की विधि से विवाह हुआ हो; -पत्र—(पुं.) औदुम्बर, गूलर; -पथ—(पुं.) धर्ममार्ग, कर्तव्यपथ; -पर—(वि.) जिसकी धर्म में आस्था हो; -परायण—(वि.) सर्वदा धर्मकार्य का यथाशक्ति अनुष्ठान करनेवाला; -पाल—(पुं.) राजा दशरथ के एक मन्त्री का नाम; (वि.) धर्म की रक्षा करनेवाला; -पाश—(पुं.) न्याय या धर्म का बंधन; -पीठ—(पुं.) धर्म का मुख्य स्थान; -पुत्र—(पुं.) धर्म के अनुसार स्वीकृत किया हुआ पुत्र, युधिष्ठिर; -प्रचार—(पुं.) धर्म के सिद्धांतों का प्रचार; -प्रचारक—(पुं.) धर्म का प्रचार करने के लिये इधर-उधर घूमकर व्याख्यान देनेवाला; -प्रतिरूपक—(पुं.) न्यायालय; -प्रदीप—(पुं.) धर्म का प्रकाश, धर्मज्ञ; (वि.) धर्मनिष्ठ; -प्रमाण—(वि.) धर्म जिसका साक्षी हो; -प्रवक्ता—(पुं.) धर्म का निर्णायक; -प्रवृत्ति—(स्त्री.) धर्म में श्रद्धा; -बल—(पुं.) धर्म की शक्ति; -बुद्धि—(स्त्री.) धर्मज्ञान, धर्म-अधर्म का विचार; -भंगिनी—(स्त्री.) धर्म के अनुसार मानी हुई बहिन, गुरु की कन्या; -भय—(पुं.) धर्म का भय, यह विश्वास कि अधर्म करने से नरक-यातना भोगनी पड़ती है; -भाणक—(पुं.) कथा-पुराण आदि वांचनेवाला; -भीत—(वि.) धर्म के भय से डरनेवाला; -भीरु—(वि.) जिसको धर्म का भय हो, जो अधर्म करते हुए बहुत डरता हो; -भूत—(वि.) धर्मशील, धार्मिक; -भूत—(पुं.) तेरहवें मनु के एक पुत्र का नाम; -भ्राता—(पुं.) भाई के समान एक ही आश्रम में रहनेवाला; -मति—(वि.) धार्मिक, पुण्यात्मा; -मय—(वि.) धर्म से परिपूर्ण; -महामान्य—(पुं.) धर्मविषयक प्रधान मन्त्री; -मूल—(पुं.) धर्म का प्रमाण; -युग—(पुं.) सत्य युग; -यूज—(वि.) धर्म-युक्त; (पुं.) न्याय से उपाजित धन; -युद्ध—(पुं.) वह युद्ध जिसमें किसी प्रकार का अन्याय अथवा नियमभंग न हो; -रक्षित—(पुं.) एक प्रसिद्ध बौद्ध स्वविर जो अशोक के समय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये बिल्किस्तान देश में भेजा गया था; -राइ—(हिं. पुं.) देते 'धर्मराज'; -राज—(पुं.) नृपति, राजा. युधिष्ठिर, न्यायाधीश, यम, धर्म का पालन करनेवाला राजा, न्यायकर्ता;

-राय-(हि. पुं.) देखें 'धर्मराज';
 -लुप्ता उपमा-(स्त्री.) वह उपमा जिसमें धर्म अर्थात् उपमान और उपमेय में समान रूप से पाये जानवाले गुण का कथन न हो; -वत्-(वि.) धर्मयुक्त, धार्मिक; -वर्धन-(पुं.) शिव, महादेव;
 -वर्म-(वि.) धर्मरक्षक, धार्मिक;
 -वत्सल-(वि.) धर्मनिष्ठ, धार्मिक;
 -वाद-(पुं.) धर्मसंबंधी तर्क; -वादी-(वि.) धर्म का उपदेश देनेवाला;
 -वासर-(पुं.) पूर्णिमा; -वाहन-(पुं.) शिव, महादेव, धर्मराज का वाहन, भेंसा; -वाह्य-(वि.) जो धर्म को न मानता हो; -विद्-(वि.) धर्मज्ञ, धर्म जाननेवाला; -विद्वत्तम-(पुं.) विष्णु;
 -वित्तम-(पुं.) विष्णु; (वि.) धार्मिकों में श्रेष्ठ; -विद्या-(स्त्री.) मीमांसादि शास्त्र; -विल्लव-(पुं.) धर्म का व्यतिक्रम; -विवेचन-(पुं.) धर्म और अधर्म का विचार; -वीर-(पुं.) वीर रस के अनुसार वह पुरुष जो धर्म करने में साहसी हो; -व्याघ-(पुं.) मिथिलापुरवासी एक व्याघ जिसने कौशिक नामक एक तपस्वी को धर्म का उपदेश दिया था;
 -व्रता-(स्त्री.) धर्म की कन्या और मरीचि ऋषि की पत्नी; -व्रती-(पुं.) धर्म का परिपोषक; -शाला-(स्त्री.) यात्रियों के लिये धर्मार्थ बना हुआ गृह, सत्र, विचारालय; -शासन-(पुं.) धर्मशास्त्र; -शास्त्र-(पुं.) वह ग्रन्थ जिसमें समाज के शासन के निमित्त नीति और सदाचार संबंधी नियम लिखे हों; -शास्त्री (पुं.) वह जो धर्मशास्त्र के अनुसार व्यवस्था करता हो, वह पण्डित जो धर्मशास्त्र को भली भाँति जानता हो;
 -शील-(वि.) धार्मिक, धर्म के अनुसार आचरण करनेवाला; -शीलता-(स्त्री.) धर्मशील होने का भाव;
 -संकट-(हि. पुं.) ऐसी स्थिति का आ पड़ना जब कोई कार्य करने या न करने दोनों स्थिति में धर्म पर आघात पड़ता हो; -संकर-(पुं.) विरुद्ध धर्म का एकत्र समवाय; -संश्रित-(वि.) धर्म-तत्त्व का अभिलाषी; -संहिता-(स्त्री.) वह शास्त्र जिसमें धर्म का निरूपण हो, धर्मशास्त्र; -सभा-(स्त्री.) वह स्थान जहाँ पर बैठकर न्यायाधीश न्याय करे;
 -सार-(पुं.) पुण्य कर्म का साधन, श्रेष्ठ या पुण्य कर्म; -सारी-(हि. स्त्री.) धर्म-पाला; -सार्वाण-(पुं.) पुराणों के अनु-

सार ग्यारहवें मनु का नाम; -सुत-(पुं.) युधिष्ठिर; -सूत्र-(पुं.) जमिनि का बनाया वह ग्रन्थ जिसमें धर्म की मीमांसा की गई है; -सेतु-(पुं.) धर्म का रक्षक; -स्थ-(पुं.) न्यायाधीश; (वि.) जो केवल धर्म में लगा रहता है; -स्थल-(पुं.) वह स्थान जहाँ धर्मकार्य किये जाते हैं; -स्थविर-(पुं.) धर्म में दृढचित्त; -हंता-(वि.) धर्म के काम में बाधा डालनेवाला।
 धर्माघ-(सं. वि.) धर्म के विषय में बहुत ही अविवेकी तथा कट्टर।
 धर्मागम-(सं. पुं.) धर्मशास्त्र।
 धर्माचार्य-(सं. पुं.) धर्मशिक्षक, धर्म की शिक्षा देनेवाला गुरु।
 धर्मात्मा-(सं. वि.) धर्म करनेवाला, धार्मिक।
 धर्माधर्म-(सं. पुं.) पुण्य और पाप।
 धर्माधिकरण-(सं. पुं.) विचारालय, न्यायालय, धर्माध्यक्ष।
 धर्माधिकार-(सं. पुं.) न्याय और अन्याय के विचार का अधिकार।
 धर्माधिकारी-(सं. पुं.) धर्म और अधर्म की व्यवस्था करनेवाला, न्यायाधीश, विचारक, दानाध्यक्ष।
 धर्माधिपति-(सं. पुं.) प्रधान व्यवस्थापक।
 धर्माधिष्ठान-(सं. पुं.) न्यायालय।
 धर्माध्यक्ष-(सं. पुं.) धर्माधिकारी, विष्णु, शिव, महादेव।
 धर्मध्वन-(सं. पुं.) न्याय का मार्ग।
 धर्मानुगत-(सं. वि.) धर्मयुक्त, धार्मिक।
 धर्मानुयायी-(सं. वि.) धर्म के अनुसार चलनेवाला।
 धर्मायतन-(सं. पुं.) धर्म का मानसिक ज्ञान।
 धर्मार्थ-(सं. अव्य.) धर्म के निमित्त, परोपकार के लिये।
 धर्मालीक-(सं. वि.) कपटी, पाखण्डी।
 धर्मावतार-(सं. पुं.) साक्षात् धर्म स्वरूप, अत्यन्त बड़ा धर्मात्मा, अच्छी तरह न्याय करनेवाला, युधिष्ठिर।
 धर्माश्रित-(सं. वि.) धर्मशील, धार्मिक।
 धर्मासन-(सं. पुं.) न्यायाधीश के बैठने का आसन, चौकी आदि।
 धर्मिणी-(सं. स्त्री.) पत्नी, स्त्री; (वि. स्त्री.) धर्म करनेवाली।
 धर्मिष्ठ-(सं. पुं.) पुण्यात्मा, अत्यन्त धार्मिक।
 धर्मी-(सं. वि.) धार्मिक, जिसमें धर्म हो, जिसमें गुण हो; (पुं.) धर्म का अवतार विष्णु, गुण या धर्म का आश्रय, धर्मात्मा पुरुष; -पुत्र-(पुं.) नाटक का कोई पात्र।

धर्मीयस्-(सं. वि.) धर्मात्मा।
 धर्मद्व-(सं. वि.) धर्मराज, यम।
 धर्मप्सु-(सं. वि.) धर्म-लाम करने का अभिलाषी।
 धर्मेश-(सं. पं.) धर्मराज, यम।
 धर्मोत्तर-(सं. पुं.) प्रधान धर्म।
 धर्मोपदेश-(सं. पुं.) धर्मशास्त्र, धर्म की शिक्षा, धर्म-विषयक उपदेश।
 धर्मोपदेशक-(सं. वि.) धर्म का उपदेश देनेवाला; (पुं.) गुरु।
 धर्मोपदेशना-(सं. स्त्री.) व्यवहार शास्त्र का उपदेश।
 धर्मोपाध्याय-(सं. पुं.) पुरोहित।
 धर्मोपेत-(सं. वि.) धार्मिक, न्यायी।
 धर्म्य-(सं. वि.) जो धर्म के अनुकूल हो।
 धर्म-(सं. पुं.) प्रगल्भता, वीरता, क्रोध, अविनय, अधीरता, अनादर।
 धर्मक-(सं. वि., पुं.) अपमान करनेवाला, तिरस्कार करनेवाला, चतुर, दमन करनेवाला, व्यभिचारी, नट।
 धर्मकारिणी-(सं. स्त्री.) असती, व्यभिचारिणी स्त्री।
 धर्मकारी-(सं. वि.) दमन करनेवाला, हरानेवाला।
 धर्मण-(सं. पुं.) अनादर, अपमान, असह्यशीलता, शिव, महादेव, आक्रमण; (वि.) दवानेवाला।
 धर्मणा-(सं. स्त्री.) अवज्ञा, अपमान, नीचा दिखाने का काम, संभोग, रति, सतीत्वहरण।
 धर्मणात्मा-(सं. पुं.) शिव, महादेव।
 धर्मणि, धर्मणी-(सं. स्त्री.) वन्धकी, कुला स्त्री।
 धर्मणीय-(सं. वि.) दवाने या हराने योग्य।
 धर्मित-(सं. वि.) अपमानित, नीचा खाय हुआ।
 धर्मो-(सं. वि.) आक्रमण करनेवाला, अपमान करनेवाला, हरानेवाला।
 धव-(सं. वि.) कँपाने या डरानेवाला; (पुं.) पति, स्वामी, नर, धूर्त मनुष्य, एक जंगली वृक्ष।
 धवई-(हि. स्त्री.) एक वृक्ष का नाम, घातकी।
 धवनि-(सं. स्त्री.) अग्नि, आग।
 धवनी-(हि. स्त्री.) धौंकनी; (वि.) सफेद।
 धवर-(हि. पुं.) एक प्रकार की चिड़िया।
 धवरा-(हि. वि.) उजला, सफेद।
 धवरी-(हि. वि. स्त्री.) उजली; (स्त्री.) सफेद रंग की गाय।
 धवल-(सं. पुं.) धव का वृक्ष, बड़ा बैल, एक राग का नाम, धवर पक्षी, छपय

छन्द का एक भेद, सफेद कोढ़, शंख, सफेदी, मिर्च; (वि.) सफेद, उजला, निर्मल, सुन्दर, मनोहर ।
 धवलगिरि—(सं.पुं.) एक पर्वत का नाम ।
 धवलता—(हिं. स्त्री.) सफेदी, उजलापन ।
 धवलत्व—(सं. पुं.) धवलता ।
 धवलना—(हिं.क्रि.स.) उज्वल करना, सफेद करना, चमकाना ।
 धवलपक्ष—(सं. पुं.) हंय, शुक्ल पक्ष ।
 धवलमूर्त्तिका—(सं. स्त्री.) दुद्धी, खड़िया मिट्टी ।
 धवलश्री—(सं.स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 धवला—(सं. स्त्री.) सफेद गाय; (पुं.) वृन्दावन का एक पर्वत, सफेद वैल अनन्त-मूल; (वि. स्त्री.) सफेद, उजली ।
 धवलाई—(हिं. स्त्री.) उजलापन, सफेदी ।
 धवलगिरि—(सं. पुं.) हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम ।
 धवलित—(सं. वि.) सफेद किया हुआ ।
 धवली—(सं.स्त्री.) सफेद गाय, सफेद मिर्च ।
 धवलीकृत—(सं. वि.) सफेद किया हुआ ।
 धवलीभूत—(सं.वि.) जो सफेद हो गया हो ।
 धवलेक्षु—(सं. पुं.) सफेद ऊख ।
 धवलोत्पल—(सं.पुं.) कुमुद, एक फूल का नाम ।
 धवाणक—(सं. पुं.) वायु, हवा ।
 धवाना—(हिं. क्रि. स.) दौड़ाना ।
 धवितव्य—(सं. वि.) हवा देने योग्य, धींकने योग्य ।
 धवित्त—(सं. पुं.) हरिन के चमड़े का बना हुआ पंखा ।
 धस—(हिं. पुं.) जल आदि में प्रवेश, गोता, डुबकी, मुरमुरी मिट्टी ।
 धसक—(हिं. स्त्री.) सूखी खाँसी से गले से निकलनेवाला शब्द, सूखी खाँसी, ढाँसी, ईर्ष्या, डाह ।
 धसकना—(हिं.क्रि.अ.) नीचे को धँसना, दबना, बैठ जाना, ईर्ष्या करना, डाह करना ।
 धसका—(हिं. पुं.) चौपायों के फेफड़े का एक रोग ।
 धसना—(हिं. क्रि. अ.) धँसना, नष्ट होना, मिट जाना ।
 धसनि—(हिं. स्त्री.) देखें 'धँसनि' ।
 धसमसाना—(हिं.क्रि.अ.) धरती में समाना धँसना ।
 धसाल—(हिं. स्त्री.) देखें 'धँसान', एक नदी का नाम ।
 धसाव—(हिं. पुं.) देखें 'धँसाव' ।
 धांक—(हिं. पुं.) मील की तरह की एक

जंगली जाति ।
 धांगड़—(हिं. पुं.) एक अनार्य जंगली जाति, (ये लोग कुआँ, तालाव आदि खोदने का काम करते हैं ।)
 धांगर—(हिं. पुं.) देखें 'धांगड़' ।
 धाँवना—(हिं.क्रि.स.) बन्द करना, बहुत अधिक या ठूसकर खाना ।
 धाँवल—(हिं. स्त्री.) उपद्रव, ऊधम, धोखा, अति शीघ्रता; -पन—(पुं.) उपद्रव, पाजीपन ।
 धाँधली—(हिं. वि.) उपद्रवी, ऊधमी, नटखट, पाजी; (स्त्री.) अनीति, धोखा ।
 धायं—(हिं. स्त्री.) देखें 'धायँ' ।
 धाँस—(हिं.स्त्री.) मिर्च, तमाखू आदि की तीव्र गन्ध जिससे खाँसी आने लगती है ।
 धाँसना—(हिं.क्रि.अ.) पशुओं का खाँसना ।
 धाँसी—(हिं. स्त्री.) घोड़े की खाँसी ।
 धा—(सं. पुं.) ब्रह्मा, बृहस्पति; (वि.) धारण करनेवाला; (हिं. पुं.) संगीत में धैवत स्वर का संकेत, तबले का एक बोल; (प्रत्य.) कुछ विशेषणों के साथ 'प्रकार' के अर्थ में लगनेवाला प्रत्यय; यथा-वहुधा, शतधा आदि ।
 धाह—(हिं. पुं.) धव का वृक्ष ।
 धाई—(हिं. स्त्री.) देखें 'धाय', दाई ।
 धाड—(हिं. पुं.) एक प्रकार का नाच ।
 धाऊ—(हिं. पुं.) वह मनुष्य जो किसी जरूरी कार्य के लिये भेजा जाय, हरकारा ।
 धाक—(सं. पुं.) वैल, आहार, अन्न, खंसा, आधार; (हिं.स्त्री.) दवदवा, प्रसिद्धि; (पुं.) ढाक, पलास वृक्ष; (मुहा.)—धँवना—प्रभाव होना; -धाँवना—प्रभाव जमाना ।
 धाकना—(हिं. क्रि. अ.) रोव जमाना ।
 धागा—(हिं.पुं.) बटा हुआ सूत, तागा, डोरा ।
 धाड़—(हिं. स्त्री.) डाकुओं का धावा, झुंड, जत्या, दहाड़ ।
 धाड़ना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'दहाड़ना' ।
 धाड़स—(हिं. स्त्री.) देखें 'ढाड़स' ।
 धाड़ी—(हिं. पुं.) बड़ा मारी डाकू ।
 धात—(हिं. स्त्री.) देखें 'धातु' ।
 धातकी—(सं. स्त्री.) धव का फूल ।
 धाता—(सं. पुं.) विवाता, ब्रह्मा, शेषनाग, विष्णु, शिव, ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम, बारह सूर्यों में से एक, एक विशिष्ट वायु का नाम, आत्मा, भूत मुनि के एक पुत्र का नाम, सप्तपियों में से एक ऋषि; (वि.) धारण करनेवाला, पालन करनेवाला ।
 धातु—(सं. स्त्री.) परमात्मा, शरीर का पोषण करनेवाले द्रव्य यथा—वात, पित्त

और कफ, शरीर में रहनेवाली सात धातुएँ—रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि मज्जा और शुक्र, शब्द का वह ल मरूप जिससे क्रिया बनती है, खान से निकलनेवाले वे द्रव्य जो मारी हों, जो गलाये जा सकें तथा जिनमें गुरुत्व हो, जो पीटकर बढ़ाये जा सकें तथा जिनका तार खींचा जा सके, शुक्र, वीर्य, तत्त्व, भूत, किसी महात्मा की अस्थि जो डिव्वे म बंद करके भूमि में गाड़ दी जाती थी और उस पर स्मारक बनाया जाता था; -क—(पुं.) शिलाजतु, शिलाजीत; -कुशल—(वि.) जो धातु के काम में कुशल हो; -क्षय—(पुं.) प्रमेहादि रोग जिसमें धातु का अधिक क्षय होता है; -घ्न—(पुं.) शरीर की धातु को नष्ट करनेवाला पदार्थ; -द्रावक—(पुं.) धातु को गलानेवाला, सोहागा; -पुष्ट—(वि.) वीर्य को गाढ़ा करनेवाला; -पुष्पिका, -पुष्पी—(स्त्री.) धव का फूल; -प्रधान—(पुं.) शुक्र, वीर्य; -वैरी—(हिं. पुं.) गन्धक; -भूत—(पुं.) पर्वत, पहाड़; (वि.) धातु का पोषण करनेवाला; -मर्म—(पुं.) कच्ची धातु को शुद्ध करने की कला; -मल—(पुं.) धातु का मल, वैद्यक के अनुसार कफ, पित्त, पसीना आदि; -मारिणी—(स्त्री.) सोहागा; -राग—(पुं.) धातु से निकला हुआ रंग; -राजक—(पुं.) शुक्र, वीर्य; -वर्धक—(वि.) वीर्य को बढ़ानेवाला; -वल्लभ—(पुं.) टंकन, सोहागा; -वाद—(पुं.) कच्ची धातु को निमल करने तथा एक में मिली हुई अनेक धातुओं को अलगाने की कला, रसायन बनाने का काम; -वादी—(पुं.) रासायनिक क्रिया से सोना-चाँदी बनानेवाला रसायनज्ञ; -विट्—(स्त्री.) सीसक, सीसा धातु; -विप—(स्त्री.) सीसा, हरताल; -वृद्धि—(स्त्री.) वीर्य की वृद्धि; -वैरी—(पुं.) गन्धक; -शेखर—(पुं.) कसीस; -संज्ञ, -संभव—(वि.) सीसक, सीसा; -सांभक—(वि.) वीर्य को रोकनेवाला; -हन्—(पुं.) गंधक ।
 धातु—(सं. वि.) धारण करनेवाला, पोषक; (पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, आत्मा, ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम, आदित्य, सूर्य; -पुत्र—(पुं.) ब्रह्मा के पुत्र सनत्कुमार; -पुष्पिका—(स्त्री.) धव का फूल ।
 धात्री—(सं. स्त्री.) माता, माँ, किसी

वच्चे को दूध पिलानेवाली स्त्री, वच्चे का पालन-पोषण करनेवाली स्त्री, धाय, दाई, पृथ्वी, गायत्री देवी, गंगा, आँवला, सेना, गाय, आर्या छन्द का एक भद्र; -पत्र-(पुं.) तालीशपत्र, आमले की पत्ती; -पुत्र-(पुं.) धाय का बेटा, नट; -फल-(पुं.) धाय का बेटा, नट; -फल-(पुं.) आँवला; -विद्या-(स्त्री.) लड़का जनाने और शिशुपालन की विद्या ।

धात्रेयी-(सं. स्त्री.) धात्री, धाय, दाई ।
धात्वर्थ-(सं. पुं.) किसी शब्द का धातु से निकलनेवाला अर्थ ।

धान-(हिं. पुं.) तृण जाति का एक पौधा जिसके बीजों का छिलका अलगाने पर चावल बनता है ।

धानक-(सं. पुं.) धन्याक, धनिया, एक रत्ती का चौथा अंश; (हिं. पुं.) धनुर्धर ।
धानकी-(हिं. पुं.) धनुर्धर, कामदेव ।
धानजई-(हिं. पुं.) एक प्रकार का धान ।
धानपान-(हिं. पुं.) विवाह के पहिले की एक रीति जिसमें वर पक्ष की ओर से कन्या के घर धान और हल्दी भजी जाती है; (वि.) डुबला-पतला ।

धानमाली-(हिं. पुं.) अस्त्र चलाने की एक क्रिया जिसमें दूसरे के चलाये हुए अस्त्र को रोका जाता है ।

धानाका-(सं. स्त्री.) धन्याक, धनिया ।
धाना-(हिं. क्रि. अ.) दौड़ना, भागना, प्रयत्न करना ।

धानाचूर्ण-(सं. पुं.) सक्तु, सत्तू ।

धानिका-(सं. स्त्री.) धानी, आधार ।

धानी-(सं. स्त्री.) आधार, वह पात्र जिसमें कोई वस्तु रखी जाय, स्थान, जगह, धन्याक, धनिया; (हिं. स्त्री.) धान की पत्ती के समान रंग, एक संकर रागिनी का नाम, मूना हुआ जव या गेहूँ; (वि.) हलके हरे रंग का ।

धानुक-(हिं. पुं.) धनुर्धर, एक नीच जाति ।

धानुष्क-(सं. पुं.) धनुर्धर, धनुष चलाकर अपनी जीविका निर्वाह करनेवाला ।

धानुष्का-(सं. स्त्री.) अपामार्ग, चिचड़ा ।

धानुष्य-(सं. पुं.) वाँस ।

धानेय, धानेयक-(सं. पुं.) धान्यक, धनिया ।

धान्य-(सं. पुं.) छिलका सहित चावल, धान, कोई भी अन्न, चार तिलों का एक परिमाण, धन्याक, धनिया, एक प्रकार का नागरमोथा, प्राचीन काल का एक अस्त्र; -क-(पुं.) धन्याक, धनिया,

धान्य, धान; -कंचुकी-(पुं.) धान का छिलका; कल्क-(पुं.) धान की भूसी; -कोष्ठक-(पुं.) अन्न भरने का कोठिला; -चमस-(पुं.) चिपिटक, चिचड़ा; -पति-(पुं.) चावल, जव; -बीज-(पुं.) धन्याक, धनिया; -भक्षक-(पुं.) एक प्रकार का पक्षी; -मंजरी-(स्त्री.) धान का अंकुर; -मंड-(पुं.) धान की बनाई हुई मदिरा; -माय-(पुं.) धान तौलने या बेचनेवाला; -मालिनी-(स्त्री.) एक राक्षसी जो रावण के यहाँ रहती थी; -माष-(पुं.) दो धानों के बराबर का एक प्राचीन परिमाण; -मुख-(पुं.) चीर-फाड़ करने का एक प्राचीन अस्त्र; -राज-(पुं.) यव, जव; -वर्धन-(पुं.) सर्वाई पर अन्न ऋण देन का व्यवहार; -बीज-(पुं.) धान का बीज, धनिया; -वीर-(पुं.) माष, उड़द; -शीर्षक-(पुं.) धान की मंजरी; -सार-(पुं.) तण्डुल, चावल ।

धान्या, धान्याक-(सं. स्त्री., पुं.) धन्याक, धनिया ।

धान्याकृत-(सं. पुं.) किसान, खेतिहर ।

धान्याम्ल-(सं. पुं.) काञ्जिक, काँजी ।

धान्यारि-(सं. पुं.) मूषक, चूहा ।

धान्याशय-(सं. पुं.) अन्न रखने का स्थान, मंडार ।

धान्यास्थि-(सं. पुं.) तुष, भूसी ।

धान्व-(सं. वि.) जंगल में उत्पन्न होनेवाला ।

धाप-(हिं. पुं.) लंबा-चौड़ा मैदान, खत की लंबाई-चौड़ाई, दूरी की नाप जो एक या दो मील मानी जाती है; (स्त्री.) तृप्ति, सन्तोष, जल की धारा ।

धापना-(हिं. क्रि. अ., सं.) तृप्त होना, सन्तुष्ट होना, अधाना, सन्तुष्ट करना, दौड़ना, भागना ।

धावा-(हिं. पुं.) छत के ऊपर का कमरा, अटारी, छत जिसके नीचे वाँस की फट्टियाँ लगी रहती हैं, वह स्थान जहाँ कच्ची रसोई बनती है ।

धाभाई-(हिं. पुं.) देखें 'दूधमाई' ।

धाम-(सं. पुं.) एक प्रकार के देवता, विष्णु, घर, शरीर, शोभा, प्रणाम, किरण, स्थान, जन्म, तेज, वागडोर, लगाम, ज्योति, देवस्थान, पुण्यस्थान, अवस्था, स्थिति, गति, स्वर्ग ।

धामक-(सं. पुं.) एक प्रकार की सुगन्धित घास, एक माशे की तेल ।

धामकेशी-(सं. पुं.) किरणयुक्त सूर्य ।

धामक-धूमक-(हिं. स्त्री.) देखें 'धूमधाम' ।

धामधा-(सं. पुं.) पालक, रक्षक ।
धामनिका-(सं. स्त्री.) धमनी, नाड़ी ।
धामनिधि-(सं. पुं.) भानु, सूर्य ।
धामभाज-(सं. पुं.) वह देवता जो यज्ञ में भाग लेता है ।

धामा-(हिं. पुं.) भोजन का नेवता ।
धामागंव-(सं. पुं.) अपामार्ग, चिचड़ा, एक प्रकार की तरौई ।

धामिन-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का बहुत लंबा सर्प जिसकी पूँछ में बहुत विष होता है ।

धार्य-(हिं. स्त्री.) तोप, बंदूक आदि के छूटने का शब्द, किसी पदार्थ के वेग से गिरने का शब्द ।

धाय-(सं. वि.) धारण करनेवाला; (हिं. स्त्री.) वह स्त्री जो दूसरे के शिशु को दूध पिलाती है तथा उसका पालन-पोषण करती है, दाई, धव का वृक्ष ।

धायना-(हिं. क्रि. अ.) दौड़ना-धूपना ।

धायस-(सं. वि.) धारण करनेवाला, पालन-पोषण करनेवाला ।

धाय्य-(सं. पुं.) पुरोहित ।

धार-(सं. पुं.) इकट्ठा किया हुआ वर्षा का जल, वेग से होनेवाली वर्षा, प्रान्त प्रदेश; (वि.) गहरा; (हिं. स्त्री.) निरन्तर जल का प्रवाह, पानी का सोता, देवी के लिए अर्घ्य, काटनेवाले हथियार का पैना किनारा, आक्रमण, धावा, सेना, दिशा, किनारा, छोर, ऋण, वर्तुलाकार काठ में (जमोट में) लगाया हुआ लोहा जिस पर कुएँ की कोठी बाँधी जाती है; (मुहा.) -चढ़ाना-किसी देवता को दूध आदि चढ़ाना; -देना-दूध देना; -निकालना-दूध दुहना; -वाँधना-किसी शस्त्र की धार को कुंठित करना; -मारना-पानी का सोता निकल आना ।

धारक-(सं. पुं.) कलसा, घड़ा; (वि.) धारण करनेवाला, रोकनेवाला ।

धारका-(सं. स्त्री.) स्त्री की योनि ।

धारण-(सं. पुं.) ग्रहण, धामना, अपने ऊपर लेना, पहिनना, सेवा, रक्षा, निवारण, ले जाना, स्थापन, ऋण लेना, अंगीकार करना, खाना-पीना; (पुं.) शिव, महादेव, कश्यप के एक पुत्र का नाम ।

धारणक-(सं. पुं.) ऋणी ।

धारणा-(सं. स्त्री.) स्मरणशक्ति, बुद्धि, संकल्प, मर्यादा, पक्का विचार, स्मृति, परब्रह्म में चित्त की स्थिरता ।

धारणी-(सं. स्त्री.) नाड़ी, श्रेणी, पंक्ति, पृथ्वी, सीधी लकीर ।

धारणीमति—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की समाधि ।
धारणीय—(सं. वि.) धारण करने योग्य, जो धारण किया जा सके ।
धारन—(हिं. पुं.) देखें 'धारण' ।
धारना—(हिं. क्रि.सं.) धारण करना, ऋण लेना ।
धारय—(सं. वि.) धारण करनेवाला ।
धारयितव्य—(सं. वि.) धारण करने योग्य ।
धारयितृ—(सं. वि.) धारण करनेवाला ।
धारयित्री—(सं. स्त्री.) धारण करनेवाली पृथ्वी ।
धारयिष्णु—(सं. वि.) धारण करनेवाला ।
धार्यांकुर—(सं. पुं.) वर्षा की बूंद, थोड़ी वर्षा, ओला ।
धारांग—(सं. पुं.) खड्ग, तलवार ।
धारांतरचर—(सं. वि.) आकाश में उड़नेवाला ।
धारा—(सं. स्त्री.) पानी आदि का बहाव, बाढ़, घोड़े की चाल, हथियार की धार, रथ का पहिया, कीर्ति, यश, उन्नति, समूह, झुंड, अधिक वर्षा, निरन्तर बहता हुआ कोई द्रव पदार्थ, पानी का झरना, समानता, गुरुत्व, हल्दी, आमला, घड़े में बनाया हुआ छिद्र, सेना का अगला भाग, पहाड़ की चोटी, राजा भोज की राजधानी ।
धारागृह—(सं. पुं.) वह घर जिसमें जलयन्त्र लगे हों ।
धाराद—(सं. पुं.) चातक पक्षी, मेघ, बादल, घोड़ा, मस्त हाथी ।
धाराधर—(सं. पुं.) मेघ, बादल, खड्ग ।
धारापात—(सं. पुं.) जलधारा का गिरना ।
धारापूव—(सं. पुं.) एक प्रकार का मालपूआ ।
धाराफल—(सं. पुं.) मैनफल का वृक्ष ।
धारायंत्र—(सं. पुं.) कृत्रिम फुहारा ।
धाराल—(सं. वि.) धारदार, जिसमें धार हो ।
धारावत—(सं. वि.) जल के समान ।
धारावनि—(सं. पुं.) वायु, हवा ।
धारावर—(सं. पुं.) मेघ, बादल ।
धारावर्ष—(सं. पुं.) निरन्तर वर्षा ।
धारावाही—(सं. वि.) धारा के रूप में (विना रुकावट के) बहने या होने वाला ।
धाराविष—(सं. वि.) खड्ग, तलवार ।
धाराशु—(सं. पुं.) आँसू का गिरना ।
धारासत्त्व—(सं. पुं.) गुरुत्व का रस ।
धारासंपात—(सं. पुं.) तीव्र और अधिक वृष्टि, मूसलधार वर्षा ।
धारासार—(सं. पुं.) जल की सतत वृष्टि ।

धारास्तुही—(सं. स्त्री.) त्रिवारा, सेहूँड़ ।
धारि—(सं. पुं.) आयुष्य, वय; (हिं. स्त्री.) समूह, झुंड, एक वर्षावृत्त का नाम ।
धारिणी—(सं. स्त्री.) धरणी, पृथ्वी, भूमि, समल का वृक्ष, देवताओं की धारह पत्नियों जिनके नाम—शची, वनस्पति, गार्गी, वृत्राणी, रुचिराकृति, सिनीवाली, कुहू, राका, अनुमति, आयाति, प्रज्ञा और वेला हैं; (वि.स्त्री.) धारण करनेवाली ।
धारी—(हिं.स्त्री.) सेना, समूह, झुंड, लकीर, रेखा; (वि.) धारण करनेवाला, ऋण लेनवाला;—**दार**—(वि.) वह वस्त्र आदि जिस पर लंबी-लंबी रेखाएँ या धारियाँ हों ।
धारु—(सं. वि.) पीनेवाला ।
धारुजल—(हिं. पुं.) खड्ग, तलवार ।
धारोष्ण—(सं. पुं.) थन से ढुहा हुआ ताजा दूध जो कुछ गरम होता है ।
धार्तराष्ट्र—(सं.पुं.) धृतराष्ट्र की सन्तान ।
धार्म—(सं. वि.) धर्म-संबंधी;—**पत्तन**—(पुं.) कील, खूटी ।
धार्मिक—(सं. वि.) धर्म-संबंधी, धर्माचरण करनेवाला, पुण्यात्मा, धर्मशील, धर्मात्मा;—**ता**—(स्त्री.) धार्मिक होने का भाव, धर्मशीलता ।
धार्म—(सं.वि.) धारण करने योग्य; (पुं.) वस्त्र, कपड़ा;—**त्व**—(पुं.) धारण करने का भाव ।
धाट् घुम्न—(सं. पुं.) घृष्टघुम्न की सन्तान ।
धाट्यर्थ—(सं. पुं.) घृष्टता ।
धाण्णक—(सं. पुं.) राजा घृष्णु का पुत्र ।
धाव—(हिं.पुं.) एक प्रकार का बहुत लंबा सुन्दर वृक्ष ।
धावक—(सं. पुं.) हरकारा, कपड़ा धोनेवाला, धोबी ।
धावड़ा—(हिं.पुं.) धव का फूल या वृक्ष ।
धावण—(हिं. पुं.) दूत, हरकारा ।
धावन—(सं. पुं.) शीघ्र दौड़ना, वेग से दौड़कर जाना, धोने या स्वच्छ करने का काम, दूत, हरकारा ।
धावना—(हिं. क्रि.अ.) दौड़ना, भागना ।
धावनि—(सं. स्त्री.) पिठवन, मटकटैया, चढ़ाई, बावा ।
धावनिका—(सं. स्त्री.) पिठवन, कंटीली मकोय ।
धावरी—(हिं. स्त्री.) सफेद रंग की गाय ।
धावा—(हिं. पुं.) आक्रमण, चढ़ाई, किसी कार्य के निमित्त दौड़-धूप; (मुहा.)—**धारना**—आक्रमण करना ।

धावित—(हिं. वि.) दौड़ता हुआ ।
धासि—(सं. पुं.) अन्न, अनाज, गृह, घर ।
धाह—(हिं. स्त्री.) चित्लाकर रीना ।
धांग—(हिं. स्त्री.) ऊवम, उपद्रव ।
धांगरा—(हिं. पुं.) देख 'धींगरा' ।
धांगा—(हिं. वि.) उपद्रवी, निर्लज्ज ।
धांगाई—(हिं. स्त्री.) ऊवम, उपद्रव, निर्लज्जता ।
धांगाधिगी—(हिं. स्त्री.) उपद्रव ।
धांगाना—(हिं. क्रि.अ.) ऊवम मचाना, उपद्रव करना ।
धाआ—(हिं. स्त्री.) धिय, कन्या, वेटी, छोटी लड़की ।
धाआन—(हिं. पुं.) देखें 'ध्यान' ।
धाआना—(हिं. क्रि.सं.) देखें 'ध्यावना' ।
धाक्—(हिं. अव्य.) धिक्, लानत ।
धाकना—(हिं. क्रि.अ.) गरम होना ।
धाकाना—(हिं. क्रि.सं.) आँच पर गरम करना ।
धाक्—(सं. अव्य.) भर्त्सना, तिरस्कार, निन्दा या घृणासूचक शब्द ।
धाक्कार—(सं. पुं.) भर्त्सना, तिरस्कार या घृणासूचक शब्द, अनादर, फटकार ।
धाक्कारना—(हिं. क्रि.सं.) तिरस्कार करना, फटकारना ।
धांग—(हिं. अव्य.) देखें 'धिक्' ।
धाग्दंड—(सं.पुं.) तिरस्कार-रूपक दण्ड ।
धात—(सं. वि.) स्थापित रखा हुआ ।
धासना—(हिं.पुं.) एक प्रकार की इमली ।
धिय—(हिं. स्त्री.) कन्या, वेटी, लड़की ।
धियसान—(सं. वि.) धारण करनेवाला ।
धिया—(हिं. स्त्री.) देखें 'धिय', कन्या ।
धियाय—(सं. वि.) अपनी बुद्धि के अनुसार काम करनेवाला ।
धिरकार—(हिं. स्त्री.) देखें 'धिक्कार' ।
धिरवना, धिराना—(हिं. क्रि.अ., सं.) डराना, धमकाना, धीमा होना, धीरज रखना ।
धियण—(सं.पुं.) बृहस्पति, ब्रह्मा, विद्वक, गुरु; (वि.) बुद्धिमान् ।
धियणा—(सं. स्त्री.) बुद्धि, प्रज्ञा, पत्थर, पृथ्वी, स्थान; (वि.स्त्री.) धारण करनेवाली ।
धियणाधिप—(सं. पुं.) देवताओं के गुरु, बृहस्पति ।
धियण्—(सं. पुं.) स्थान, गृह, गणित, अग्नि; (वि.) स्तुति करने योग्य ।
धींग—(हिं. पुं.) हृष्ट-गुष्ट मनुष्य, हटा-कटा आदमी; (वि.) दूध, पानी, उपद्रवी;—**धुकाड़ी**—(स्त्री.) उपद्रव ।
धींगड़ा—(हिं.पुं.) हटाकटा मनुष्य, गुंड,

वदमाश, कुकर्मो ।
 धींगड़ी (री) - (हि.वि.,स्त्री.) दुष्ट (स्त्री) ।
 धींगा - (हि.वि.,पुं.) उपद्रवी, पाजी; - धींगी - (स्त्री.) उपद्रव, बलप्रयोग; - मुशती - (स्त्री.) उपद्रव, हायावाँही, लड़ना ।
 धींगाड़, धींगाड़ा - (हि. वि.) दुष्ट, हष्ट-पुष्ट, हटा-कटा, वर्णसंकर, दोगला ।
 धीन्द्रिय - (सं. पुं.) ज्ञानन्द्रिय, वह इन्द्रिय जिसके द्वारा किसी बात का ज्ञान प्राप्त होता है (आँख, कान, नाक, त्वचा तथा रसना) ।
 धीवर - (हि. पुं.) देखें 'धीवर', मल्लाह ।
 धी - (सं. स्त्री.) बुद्धि, ज्ञान, मन, भर्म; (हि. स्त्री.) लड़की, बेटी; - गुण - (पुं.) बुद्धि का गुण ।
 धीजना - (हि.क्रि.अ.,सं.) अंगीकार करना, स्वीकार करना, ग्रहण करना, धीरज धरना, अति प्रसन्न होना, सन्तुष्ट होना ।
 धीत - (सं. वि.) आदर किया हुआ, आराधित, प्यासा ।
 धीति - (सं.स्त्री.) प्यास, आदर, आराधना ।
 धीदा - (सं. स्त्री.) कन्या, कुमारी, बेटी; (वि. स्त्री.) बुद्धिदायिका ।
 धीम - (हि. वि.) देखें 'धीमा' ।
 धीमत् - (सं. वि.) बुद्धियुक्त; (पुं.) पुरूरवा के एक पुत्र का नाम ।
 धीमर - (हि. पुं.) धीवर, मल्लाह ।
 धीमा - (हि. वि.) जिसका वेग मन्द हो, जो तीव्र न हो, जो हलका हो, (ज्वर), (स्वर) जो साधारण से कम हो; - तिताला - (पुं.) संगीत में सोलह मात्राओं का एक ताल ।
 धीमान - (सं.वि.,पुं.) बुद्धिमान, बृहस्पति ।
 धीमोदिनी - (सं. स्त्री.) मद्य, सुरा, धीया ।
 धीया - (हि. स्त्री.) दुहिता, लड़की ।
 धीर - (सं. वि.) धैर्यचित्त, जो शीघ्र घबड़ाता न हो, वृत्तिवान्, विनीत, नम्र, गंभीर, मन्द, धीमा, मनोहर, सुन्दर; (पुं.) धैर्य, सन्तोष ।
 धीरट - (हि. पुं.) हंस पक्षी ।
 धीरज - (हि. पुं.) देखें 'धैर्य' ।
 धीरता - (सं. स्त्री.) मन की स्थिरता, चित्त की नम्रता, सन्तोष, पांडित्य, नायक का एक गुण ।
 धीरत्व - (सं. पुं.) धीरता ।
 धीरपत्री - (सं. स्त्री.) जमीकन्द, सूरन ।
 धीरप्रशांत - (सं.पुं.) नाटक का वह नायक जो अनेक गुणों से युक्त उत्तम रूप का हो ।
 धीरललित - (सं. पुं.) नाटक आदि का वह नायक जो कलापरायण, मृदु,

तथा चिन्तारहित हो, एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सोलह अक्षर होते हैं ।
 धीरशांत - (सं. पुं.) वह नायक जो दयानान्, गुणवान्, सुशील तथा पुण्यवान् हो ।
 धीरस्वंध - (सं. पुं.) भैस, जंगली सूअर ।
 धीरा - (सं. स्त्री.) मालकंगनी, काकोली, गुरुच, श्रृंगार में वह नायिका जो अपने नायक की चेष्टाओं में परस्त्री-गमन के चिह्न देखकर व्यंग्य रूप से क्रोध प्रदर्शित करे; (हि. वि.) मन्द, धीमा; (पुं.) धैर्य, धीरज ।
 धीराधीरा - (सं. स्त्री.) साहित्य में वह नायिका जो अपने नायक के अंग-भाव में परस्त्री-रमण के चिह्न देखकर अपना क्रोध कुछ गुप्त रूप से दिखलाये ।
 धीरावी - (सं. स्त्री.) शीशम का पेड़ ।
 धीरी - (हि. स्त्री.) आँख की पुतली ।
 धीरे - (हि. अव्य.) मन्द स्वर या गति से ।
 धीरोदात्त - (सं. पुं.) वह नायक जो आत्मभिमान नहीं दिखलाता, जो बलवान्, क्षमाशील, दयालु, दृढ़ चित्त और अच्छा लड़नेवाला हो, धीररस-प्रधान नाटक का मुख्य नायक ।
 धीरोद्धत (सं. पुं.) वह नायक जो प्रचण्ड, चंचल, मायापटु, अहंकारादि-युक्त हो तथा आत्मश्लाघा करता हो ।
 धीर्य - (सं. वि.) कातर, डरपोक ।
 धीलटि - (सं. स्त्री.) दुहिता, लड़की ।
 धीवर - (सं. पुं.) मल्लाह, मछुआ, केवट ।
 धीवरी - (सं. स्त्री.) मल्लाहिन, मछली मारने की कँटिया, वंसी आदि ।
 धीशक्ति - (हि. स्त्री.) बुद्धि का गुण ।
 धीसन्धिव - (हि. पुं.) बुद्धिमान मन्त्री ।
 धीहरा - (हि. स्त्री.) कटहल, कुंदरू ।
 धुआँ - (हि. पुं.) देखें 'घुआँ', धूम्र ।
 धुंकार - (हि. स्त्री.) गड़गड़ाहट ।
 धुंगार - (हि. स्त्री.) बघार, तड़का, छौंक ।
 धुंगारना - (हि.क्रि.सं.) बघारना, छौंकना ।
 धुंज - (हि. वि.) धुंघला ।
 धुंद - (हि. स्त्री.) देखें 'धुंध' ।
 धुदा - (हि. वि.) अन्धा, नेत्रहीन ।
 धुंध - (हि. स्त्री.) वायु में उड़ती हुई धूल, वह अन्धकार जो हवा में धूल का बादल छा जाने से हो जाता है; आँख का वह रोग जिसमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती ।
 धुंधक - (हि. पुं.) देखें 'धुंध' ।
 धुंधका - (हि. पुं.) धुआँ निकलने का छिद्र, धुआँकश ।
 धुंधकार - (हि. पुं.) धुंकार, गड़गड़ाहट, अंधकार, धुंध का अँधेरा ।

धुंधमार - (हि. पुं.) देखें 'धुंधुमार' ।
 धुंधर - (हि. स्त्री.) वह धूल जो हवा में उड़ती हो, अत्यधिक धूल उड़ने के कारण अँधेरा होना ।
 धुंधराना - (हि.क्रि.अ.) देखें 'धुंधलाना' ।
 धुंधरि - (हि. स्त्री.) वह अँधेरा जो धुँ आदि के कारण होता हो ।
 धुंधला - (हि. वि.) धुँ के रंग का, कुछ काला, अस्पष्ट, जो स्पष्ट रूप से न दिखाई पड़े, थोड़ा-थोड़ा अँधेरा ।
 धुंधलाई - (हि. स्त्री.) धुंधलापन ।
 धुंधलाना - (हि.क्रि.अ.) धुंधला पड़ जाना ।
 धुंधलापन - (हि.पुं.) धुंधला होने का भाव ।
 धुंधली - (हि. स्त्री.) देखें 'धुंध' ।
 धुंधु - (सं. पुं.) मधु नामक राक्षस के पुत्र का नाम; - मार - (पुं.) बृहदश्व राजा का पुत्र जिसने धुंधु नामक राक्षस को मारा था, घर में जमा हुआ धुआँ, धीर-वहूटी, छिपकली ।
 धुंधुकार - (हि. पुं.) अंधकार, धुंधलापन, नगाड़े का शब्द ।
 धुंधुरित - (हि. वि.) धुंधला किया हुआ, दृष्टिहीन, धुंधली आँखवाला ।
 धुंधुवाना - (हि.क्रि.अ.) धुआँ देना, धुआँ देकर जलना ।
 धुंधेरी - (हि. स्त्री.) धुंध, वह अन्धकार जो हवा में मिली हुई धूल के कारण हो ।
 धुंधेला - (हि. पुं.) वदमाश, दुष्ट, छली, धोखेवाज ।
 धु - (सं. स्त्री.) कँपकँपी, थरथराहट ।
 धुअ - (हि. पुं.) ध्रुवतारा ।
 धुआँ - (हि. पुं.) भाफ जो जलती हुई वस्तुओं से निकलकर वायु में मिल जाती है, कोयले के सूक्ष्म कणों के मिले होने से इसका रंग कुछ काला होता है, धूम्र, बड़ा समूह, चेहरे का कालापन, घटाटोप धुंध; (मुहा.) धुँ का धीरा-हर-शीघ्र नष्ट होनेवाली वस्तु; धुँ का बादल उड़ाना - व्यर्थ बकवक करना; - कश - (पुं.) भाफ से चलनेवाली नाव या जहाज, अगिनवोट; - दान - (पुं.) छत में धुआँ निकलने का छिद्र; - धार - (वि.) धुँ से भरा हुआ, धूम्रमय, धोर, प्रचण्ड, काला, धुँ के समान, तड़क-भड़क का, भड़कीला, काले रंग का; (अव्य.) बड़े वेग से, बड़े जोर से ।
 धुआँना - (हि.क्रि.सं.) अधिक धुँ में चुरने के कारण स्वाद या गन्ध का विगड़ जाना ।
 धुआँयँघ - (हि. वि.) धुँ के समान गन्ध का; (स्त्री.) अच्छी तरह अन्न का पाचन

त होने के कारण जो डकार आती हो।
धुआँरा—(हि.पुं.) धुआँ निकलने के लिए छत में बना हुआ छिद्र।
धुआँस—(हि. स्त्री.) देखें 'धुवाँस'।
धुआँसा—(हि.पुं.) वह कालिख जो धुएँ के कारण छत में जम जाती है, (वि.) धुएँ के रंग या गन्ध का।
धुआ—(हि.पुं.) शव, मृतदेह।
धुक—(हि.स्त्री.) कलावत् बटने की सलाई।
धुकड़-धुकड़—(हि.पुं.) चित्त की अस्थिरता, व्यग्रता, घबड़ाहट।
धुकड़ी—(हि.स्त्री.) छोटी थैली या बटुआ।
धुकधुकी—(हि. स्त्री.) छाती के बीच का गहरा स्थान, हृदय की बड़कन, कम्पन, भय, डर, गले में पहिनने का एक प्रकार का गहना।
धुकना—(हि.क्रि.अ.) झुकना, नीचे की ओर गिरना, झपटना, टूट पड़ना, गिर पड़ना, नवना।
धुकाना—(हि. क्रि. स.) नवाना, झुकाना, पटकना, ढकेलना, प्रछाड़ना, धूनी देना।
धुकार—(हि.स्त्री.) नगाड़े का शब्द, गरज, गड़गड़ाहट का शब्द।
धुकी—(सं. स्त्री.) वेर का पेड़।
धुकना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'धुकना'।
धुगधुगी—(हि. स्त्री.) देखें 'धुकधुकी'।
धुज, धुजा—(हि.पुं., स्त्री.) ध्वजा, पताका।
धुजिती—(हि. स्त्री.) सेना।
धुङ्गा, धुङ्गी—(हि. वि.) वस्त्रहीन, बिलकुल नंगा, जिसके नग्न शरीर पर धूल लगी हो।
धुत—(सं. वि.) छोड़ा हुआ, मगाया हुआ;
-कार—(हि. स्त्री.) देखें 'धुतकार'।
धुतकारना—(हि.क्रि.स.) देखें 'धुतकारना'।
धुताई—(हि. स्त्री.) धूर्तता।
धुतारा—(हि. वि.) धूर्त।
धुतू—(हि.पुं.) देखें 'धूतू'।
धुधुकार—(हि.स्त्री.) धू-धू का शब्द, कर्कश शब्द।
धुन—(सं.पुं.) कम्पन, कांपने की क्रिया; (हि.स्त्री.) किसी काम को निरन्तर खूब परिश्रम से करने की प्रवृत्ति, मन को तरंग, चिन्ता, सोच-विचार, गाने का एक ढंग, संपूर्ण जाति का एक राग; (मुहा.)
-का पक्का—वह जो आरंभ किये हुए काम को बिना पूरा किये नहीं छोड़ता।
धुनकना—(हि. क्रि. स.) धुनना।
धुनकी—(हि. स्त्री.) धुनियों का धनुष के आकार का रुई धुनने का साधन, लड़कों के खेलने का छोटा धनुष।

धुनना—(हि.क्रि.स.) धुनकी से रुई स्वच्छ करना जिससे इसमें के विनीले अलग हो जायें, धूल निकल जाय और रेशे अलग हो जायें, खूब मारना या पीटना, किसी काम को निरन्तर करते जाना, वारंवार कहना।
धुनवाना—(हि. क्रि. स.) धुनने का काम किसी दूसरे से कराना।
धुनि—(सं. पुं.) एक असुर का नाम; (स्त्री.) नदी; (हि.स्त्री.) ध्वनि।
धुनियाँ—(हि.पुं.) रुई धुनने का काम करनेवाला, वेहना।
धुनी—(हि. वि.) निरन्तर किसी धुन में लगा रहनेवाला; (सं. स्त्री.) नदी; (हि. स्त्री.) देखें 'ध्वनि', देखें 'धूनी'।
धुनीनाथ—(सं.पुं.) सागर, समुद्र।
धुनेचा—(हि.पुं.) एक प्रकार का सन।
धुनेहा—(हि.पुं.) देखें 'धुनियाँ', वेहना।
धुपना—(हि.क्रि.अ.) धुलना, धोया जाना।
धुपाना—(हि.क्रि.स.) सुखाने के लिए किसी वस्तु को धूप में रखना, धूप दिखाना।
धुपेली—(हि. स्त्री.) गरमी के दिनों में पसीने से निकलनेवाली छोटी-छोटी फुंसी, अँभौरी।
धुपारा—(हि. वि.) धुएँ के रंग का।
धुमिलना—(हि. क्रि. स.) धूमिल करना।
धुमिला—(हि. वि.) धुंधला।
धुरंधर—(सं.पुं.) भार उठानेवाला, बोलनेवाला मनुष्य या पशु, एक राक्षस का नाम, ध्व का दृक्ष; (वि.) भार ढोनेवाला, श्रेष्ठ, प्रधान, सबसे बड़ा या बलवान्।
धुर—(सं.पुं.) गाड़ी या रथ का घुरा, अक्ष, भार, बोल, आरंभ, बल आदि पशुओं के कन्धे पर रखने का जुआ, प्रधान स्थान, ऊँचा स्थान, धन, सम्पत्ति, भूमि की एक नाप जो एक विश्वे के बराबर होती है, भाग, अंश, चिनगारी; (वि.) दृढ़, पक्का; (अव्य.) ठीक स्थान पर, सटीक, सीध, सीध में;
-सिरे से—(अव्य.) आरम्भ से।
धुरकट—(हि.पुं.) भूमि का वह लगान जो कृषक भू-स्वामी को जेठ के महीने में दे देता है।
धुरकिल्ली—(हि. स्त्री.) गाड़ी के घुरे में लगाई जानेवाली लोहे की कोल।
धुरना—(हि. क्रि. स.) मारना, पीटना वजाना।
धुरपद—(हि.पुं.) देखें 'ध्रुपद'।
धुरा—(हि.पुं.) वह लोहे का डंटा जिस पर गाड़ी आदि का पहिया घूमता है, अक्ष।
धुरिया-धुरंग—(हि. वि.) (वह गाना) जो

बिना साज-बाज के अकेले ही गाया जाय, अकेला, जिसके साथ दूसरा कोई न हो।
धुरियाना—(हि.क्रि.स.) किसी वस्तु को धूल से ढाँपना, ऊँच की उपज का पहले-पहल गोड़ा जाना, किसी कलंक या दोष का छिपाया जाना।
धुरिया-मल्लार—(हि.पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक मल्लार राग।
धुरी—(हि. स्त्री.) छोटा घुरा।
धुरीण—(सं. वि.) भारवाहक, बोल ढोनेवाला, मुख्य, प्रधान, श्रेष्ठ, धुरंवर।
धुरीय—(सं.पुं.) बोल ढोनेवाला पशु; (वि.) बोल ढोने योग्य।
धुरेटना—(हि. क्रि. स.) धूल लगाना, धूल पोतना।
धुर्य—(सं.वि.) धुरंधर, श्रेष्ठ, बोल ढोने योग्य।
धुरा—(हि.पुं.) किसी वस्तु का बहुत छोटा भाग, कण, रजकण; (मुहा.) धुरे उड़ाना—किसी वस्तु के छोटे-छोटे टुकड़े करना।
धुलना—(हि. क्रि.अ.) जल की सहायता से स्वच्छ किया जाना, धोया जाना।
धुलवाना—(हि. क्रि. स.) धोने का काम किसी दूसरे से कराना।
धुलाई—(हि.स्त्री.) धोने का काम या शुल्का।
धुलाना—(हि.क्रि.स.) किसी दूसरे को धोने के काम में प्रवृत्त करना, धुलवाना।
धुलिया-मिटिया—(हि. वि.) जिस पर धूल या मिट्टी जमी हुई हो, शान्त किया हुआ।
धुलेड़ी—(हि. स्त्री.) होली के दूसरे दिन होनेवाला हिन्दुओं का एक त्योहार जिसमें लोग एक दूसरे पर गुलाल डालते हैं।
धुव—(हि. वि., पुं.) देखें 'ध्रुव'।
धुवक—(सं. वि.) गर्भनाश करनेवाला।
धुवका—(सं. स्त्री.) गीत का पहिला पद।
धुवन—(सं.पुं.) अग्नि, आग; (वि.) कँपानेवाला, हिलानेवाला।
धुवाँ—(हि.पुं.) देखें 'धुआँ';
-कसा—(पुं.) धुआँकसा।
धुवाँरा—(हि.पुं.) धुआँ निकलने का छिद्र।
धुवाँस—(हि. स्त्री.) उड़द का आटा जिसका पापड़ आदि बनाया जाता है।
धुवाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'धुलाना'।
धुवित्र—(सं.पुं.) हरिन के चमड़े का बना हुआ पंजा।
धुतूर—(सं.पुं.) धतूरा।
धुस्त—(हि.पुं.) मिट्टी आदि का ऊँचा ढेर, टीला, नदी आदि के किनारे बनाया हुआ बाँध, बंद।
धुस्सा—(हि.पुं.) मोटे ऊन की बनी हुई लोई जो ओढ़ने के काम में आती है।

धूम- (हि. स्त्री.) देखें 'धुंध'।
 धूमर- (हि. वि.) धुंधला; (पुं.) अँवैरा जो हवा में छाई हुई धूल के कारण हो जाता है।
 धू- (हि. पुं.) ध्रुवतारा, घुरा; (सं. पुं.) उत्तानपाद राजा के पुत्र का नाम।
 धुआँ- (हि. पुं.) देखें 'धुआँ', धूम्र।
 धुआँधार- (हि. वि., अव्य.) देखें 'धुआँधार'।
 धुई- (हि. स्त्री.) बूनी।
 धूक- (सं. पुं.) वायु हवा, धूर्त मनुष्य, काल, मालसिरी का वृक्ष, विलैया; (हि. पुं.) कलावत्तू वटने की सलाई।
 धूत- (हि. वि.) कांपता हुआ, धमकाया हुआ, छोड़ा हुआ, देखें 'धूर्त'।
 धूतना- (हि. क्रि. स.) ठगना, धोखा देना।
 धूतपाप- (सं. वि.) जिसका पाप दूर हो गया हो।
 धूतपापा- (सं. स्त्री.) काशी की एक प्राचीन छोटी नदी।
 धूता- (सं. स्त्री.) भार्या, स्त्री।
 धूती- (हि. स्त्री.) एक प्रकार की चिड़िया।
 धूतुक, धूतू- (हि. पुं.) तुरही बाजा।
 धूध- (हि. पुं.) आग के दहकने का शब्द, आग की लपट।
 धून- (सं. वि.) कम्पित, कांपता हुआ।
 धूनक- (सं. पुं.) गोंद, राल, धूप; (वि.) हिलाने-डोलानेवाला।
 धूनन- (सं. पुं.) कम्प, थरथराहट।
 धूनना- (हि. क्रि. स.) धुनी देना, सुलगाना, जलाना, रुई के रेशे अलगाना, धुनना।
 धूनराज- (हि. पुं.) एक प्रकार का बड़ा वृक्ष।
 धूना- (हि. पुं.) गुग्गुलु की जाति का एक बड़ा वृक्ष, इसमें से निकलनेवाला गोद जो धूप की तरह जलाया जाता है।
 धूनि- (सं. स्त्री.) कम्प, थरथराहट।
 धूनी- (हि. स्त्री.) देवपूजन अथवा सुगन्ध के लिए कपूर, अगर, गुग्गुलु आदि सुगन्धित द्रव्यों का सुलगाया हुआ धुआँ, साधुओं के तापने की आग; (मुहा.) -जगाना-तप करना, साधु वनना; -देना-गन्ध-द्रव्यों को सुलगाकर धुआँ करना; -रमाना-धूनी जलाकर आँच तापना।
 धूप- (सं. पुं.) मिश्रित गन्ध-द्रव्यों का धुआँ, इनसे बनी हुई बत्ती आदि जो देवपूजन या सुगन्ध के लिए जलाई जाती हैं; (हि. स्त्री.) सूर्य का प्रकाश, धाम; (मुहा.) -खाना-ऐसे स्थान पर बैठना जहाँ शरीर पर धूप पड़े; -दिलाना-धूप में रखना; -निकलना-मृत्यु का आकाश में उदय हो जाना; -में बाल

पकाना-जीवन का अधिक समय बिना अनुभव प्राप्त किये व्यतीत करना।
 धूपक- (सं. पुं.) गहतूत की लकड़ी।
 धूप-वड़ी- (हि. स्त्री.) एक प्रकार का यन्त्र जिसमें सूर्य के प्रकाश से समय का ज्ञान होता है।
 धूपछाँह- (हि. स्त्री.) एक प्रकार का वस्त्र जिसके ताने और बाने में विभिन्न रंग होते हैं; (इसी कारण से ऐसे वस्त्र में एक ही स्थान पर कभी एक रंग और कभी दूसरा रंग जान पड़ता है।
 धूपदान- (हि. पुं.) वह पात्र जिसमें धूप या गन्ध-द्रव्य रखकर सुलगाया जाता है।
 धूपदानी- (हि. स्त्री.) छोटा धूपदान।
 धूपद्रुम- (सं. पुं.) लाल खैर का वृक्ष।
 धूपन- (सं. पुं.) साल का वृक्ष, धूप देने की क्रिया।
 धूपना- (हि. क्रि. अ., स.) गन्ध-द्रव्य सुलगाना, धूप देना, सुगन्धित धुएँ से वासना, दीड़ना, व्यग्र करना।
 धूपघात्र- (सं. पुं.) धूप जलाने का बरतन।
 धूपबत्ती- (हि. स्त्री.) गन्ध-द्रव्य का चूर लपेटे हुए सीक या बत्ती जिसके जलाने से सुगन्धित धुआँ उठकर फैलता है।
 धूपमुद्रा- (सं. स्त्री.) तन्त्रानुसार धूपदान की मुद्रा।
 धूपवात- (सं. पुं.) स्नान करने के बाद सुगन्धित धुएँ से शरीर, सिर के बाल आदि को सुवासित करने की क्रिया।
 धूपवृक्ष- (सं. पुं.) सलाई या गुग्गुलु का वृक्ष।
 धूपयित- (सं. वि.) चलते-चलते थका हुआ, धूप दिखाया हुआ।
 धूपार्ह- (सं. वि.) धूप देने योग्य।
 धूपित- (सं. वि.) सन्तप्त, थका हुआ, धूप दिया हुआ।
 धूम- (सं. पुं.) धूम्र, धुआँ, डकार, उल्कापात, धूम्रकेतु, एक ऋषि का नाम, एक देश का नाम; -क- (पुं.) धुआँ, एक प्रकार का शाक; -केतु- (पुं.) दुमदार सफेद तारा जो कभी-कभी आकाश में दिखाईपड़ता है, पुच्छल तारा, एक प्रकार का घोड़ा, केतु ग्रह, रावण का एक राक्षस सेनापति, अग्नि, महादेव; -गंधि- (पुं.) वह अग्नि जिसका अनुमान धुएँ से होता है; -ग्रह- (पुं.) राहुग्रह; -ज- (पुं.) मेघ, बादल, मोथा, घास; -जांगज- (पुं.) वज्रकार, नौसादर; -दर्शी- (पुं.) जिसकी आँखों से अस्पष्ट धुआँ-सा दिखाई पड़ता है, एक प्रकार का आँख का रोग; आग; -ध्वज- (पुं.) -धर- (पुं.) अग्नि,

अग्नि, आग; -प- (वि.) धुआँ पीनेवाला; -पथ- (पुं.) धुआँ निकलने का मार्ग; -पान- (पुं.) औषधियों का धुआँ जो रोगी को नली द्वारा पान कराया जाता है, तमाखू, बीड़ी आदि पीने का व्यसन; -पोत- (पुं.) अग्निबोट, धुआँ-कश; -प्रभा- (स्त्री.) एक नरक का नाम; (वि.) धुएँ के रंग का; -प्राश- (वि.) धुआँ पीकर तपस्या करनेवाला; -सार्ग- (पुं.) धुएँ का मार्ग; -मृत्तिका- (स्त्री.) सुवर्ण शोधने की एक प्रकार की मिट्टी; -योनि- (पुं.) मेघ, बादल, मोथा; -रज- (पुं.) धुएँ की कालिख जो छतों में लग या जम जाती है; -ल- (पुं.) कृष्ण लोहित वर्ण; (वि.) धुएँ के रंग का; -वार- (वि.) जिसमें धुआँ लगा हो; -वर्म- (पुं.) धुएँ का मार्ग; -शिक्ष- (पुं.) एक राक्षस का नाम; -संहति- (स्त्री.) धुएँ का जमाव; -स- (पुं.) एक प्रकार का शाक; -सार- (पुं.) घर का धुआँ।
 धूम- (हि. पुं.) अनेक मनुष्यों का एकत्र होकर कोलाहल करना, आन्दोलन, उपद्रव, हलचल, ऊधम, उत्पात, समारोह, प्रसिद्धि, हल्ला, ठाट-वाट; -धड़का- (पुं.) समारोह, भारी आयोजन; -धाम- (स्त्री.) ठाटवाट, समारोह।
 धूमक-धैया- (हि. स्त्री.) उत्पात, उपद्रव, कूद-फाँद, हल्ला।
 धूमर- (सं. पुं.) आँख का एक रोग जिसमें आँखों से धुंधला दिखाई पड़ता है, देखें 'धूमल'।
 धूमला- (हि. वि.) धुएँ के रंग का, ललाई लिए काले रंग का, धुंधला, जो चटकीला न हो, मलिन।
 धूमसी- (सं. स्त्री.) उड़द का आटा।
 धूमांग- (सं. पुं.) जिसका रंग धुएँ के समान हो।
 धूमाक्ष- (सं. पुं.) वह पुरुष जिसकी आँख 'धुएँ' के रंग की हों।
 धूनाग्नि- (सं. पुं.) बिना ज्वाला या लपट की आग।
 धूनावती- (सं. स्त्री.) दस महाविद्याओं में से एक।
 धूमिका- (सं. स्त्री.) एक प्रकार का पक्षी।
 धूमित- (सं. वि.) जिसमें धुआँ लगा हो।
 धूमिता- (सं. स्त्री.) सूर्य के डूबने की दिशा, पश्चिम।
 धूमिन- (सं. पुं.) अग्नि की एक जिह्वा का नाम।

धूमिल—(हि.वि.) धुंधला, धुएँ के रंग का।
 धूमोद्गार—(सं.पुं.) धुआँ निकलना, धुआँयंत्र।
 धूमोर्णा—(सं.स्त्री.) यम की स्त्री, मार्कण्डेय की स्त्री का नाम; -पति—(पुं.) यम।
 धूम्याट—(सं.पुं.) भृंगराज नामक पक्षी।
 धूम्र—(सं.पुं.) धुआँ, ललाई लिए काला रंग, शिलारस, लोवान, शिव, महादेव, मेघ, वादल, राम की सेना का एक भाग; (वि.) धुएँ के रंग का, सुंघनी के रंग का; -क—(पुं.) उष्ट्र, ऊँट; -केतु—(पुं.) राजा भरत के पुत्र का नाम; (वि.) जिसकी पताका धुएँ के रंग की हो; -केन—(पुं.) राजा पृथु के एक पुत्र का नाम; (वि.) जिसके बाल सुंघनी के रंग के हों; -पत्रा, -पत्रिका—(स्त्री.) कृमिघ्नी नामक पीधा; -लोचन—(पुं.) कपोत, कबूतर, शुष्म दानव का सेनापति जिसको भगवती ने मारा था; -लोहित—(पुं.) शिव, महादेव, कालापन लिए गाढ़ा लाल रंग; -वर्ण—(पुं.) ललाई लिये काला रंग; (वि.) धुएँ के रंग का; -वर्णा—(स्त्री.) अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक जिह्वा का नाम; -शक—(पुं.) उष्ट्र, ऊँट; -शूल—(पुं.) देखें 'धूम्रशक'।
 धूम्रा—(सं.स्त्री.) एक प्रकार की ककड़ी।
 धूम्राक्ष—(सं.वि.) जिसकी आँख धुएँ के समान हो; (पुं.) रावण के एक सेनापति का नाम।
 धूम्राट—(सं.पुं.) भृंगराज नामक पक्षी।
 धूम्राभ—(सं.पुं.) वह जिसकी कान्ति धूमिल वर्ण की हो।
 धूम्रायण—(सं.पुं.) एक ऋषि का नाम।
 धूम्राचि—(सं.स्त्री.) अग्नि की दस कलाओं में से एक।
 धूम्राश्व—(सं.पुं.) राजा इक्ष्वाकु के प्रपौत्र का नाम।
 धूम्रिका—(सं.स्त्री.) शीशम का पेड़।
 धूर—(हि.स्त्री.) धूलि, धूल।
 धूरकट—(हि.पुं.) वह लगान जो कृषक भूस्वामी को जैठ में पेशगी देता है।
 धूरजटी—(हि.पुं.) देखें 'धूर्जटि'।
 धूरत—(हि.वि.) देखें 'धूर्त'।
 धूरधान—(हि.पुं.) धूल का ढेर।
 धूरधानी—(हि.स्त्री.) धूर का ढेर, धूर, ध्वंस, नाश, एक प्रकार की बंदूक।
 धूरा—(हि.पुं.) धूल, चूरा, चूर्ण, बूकनी; (मुहा.) -देना—शीत लगने पर शरीर भर सोंठ की बूकनी रगड़ना।

धूरि—(हि.स्त्री.) देखें 'धूल'।
 धूरिया-मल्लार—(हि.पुं.) मल्लार राग का एक भेद।
 धूरे—(हि.अव्य.) पास में।
 धूर्जटि—(सं.पुं.) शिव, महादेव।
 धूर्त—(सं.पुं.) लोहे की मैल, धतूरा, चौर नामक गन्ध-द्रव्य, जुआरी; (वि.) मायावी, बंचक, धोखा देनेवाला।
 धूर्तक—(सं.पुं.) सियार, गीदड़, जुआरी।
 धूर्तकृत—(सं.पुं.) धतूरा; (वि.) धोखा देनेवाला।
 धूर्तचरित—(सं.पुं.) धूर्तों का चरित्र, संकीर्ण नाटक का एक भेद।
 धूर्तजंतु—(सं.पुं.) मनुष्य।
 धूर्तता—(सं.स्त्री.) शठता, ठगपना, बंचकता।
 धूर्तर—(सं.पुं.) पारद, पारा।
 धूर्ता—(सं.स्त्री.) सफेद भटकटैया।
 धूर्धर—(सं.पुं.) धूर्धर, बोझा ढोनेवाला।
 धूर्धह—(सं.वि.) देखें 'धूर्धर'।
 धूल—(हि.स्त्री.) मिट्टी, रेत आदि का महीन कण, रेणु, रज, धूल के समान कोई तुच्छ वस्तु; (मुहा.) -उड़ना-नष्ट होना, शोभा का मिटना, उपहास होना; -उड़ाना-अपमानित करना, हँसी उड़ाना; -की रस्सी बंटना-असंभव बात के पीछे पड़ना; -चाटना-बड़ी विनती करना; -डालना-दवा देना, ध्यान में न लाना; -फाँकना-इधर-उधर मारना-मारफिरना; -में मिलाना-चौपट करना; -समझना-तुच्छ समझना; पैर की धूल-अति तुच्छ वस्तु या व्यक्ति; सिर पर धूल डालना-पछतावा करना।
 धूलक—(सं.पुं.) विप, गरल।
 धूलधानी—(हि.स्त्री.) ध्वंस, नाश।
 धूला—(हि.पुं.) खण्ड, टुकड़ा।
 धूलि—(सं.स्त्री.) मिट्टी, रेत आदि का महीन चूर, धूल।
 धूलिका—(सं.स्त्री.) महीने जलकणों की झड़ी।
 धूलिकुट्टिम—(सं.पुं.) जोता हुआ खेत।
 धूलिकेदार—(सं.पुं.) मिट्टी का टीला।
 धूलिगुच्छक—(सं.पुं.) अवीर।
 धूलिजंत्र—(सं.पुं.) काक, कौवा।
 धूलिध्वज—(सं.पुं.) पवन, वायु, हवा।
 धूलिपुष्पिका—(सं.स्त्री.) केतकी का फूल।
 धूली—(सं.स्त्री.) धूल; -पटल—(पुं.) धूल का ढेर; -सय—(वि.) धूल से भरा हुआ।
 धूवां—(हि.पुं.) देखें 'धुआँ'।
 धूसर—(सं.पुं.) मटमैला रंग, गदहा, ऊँट, कबूतर, बतियों की एक जाति, जंगली

गौरैया; (वि.) धूल के रंग का, मटमैला, धूल लगा हुआ, धूल से भरा हुआ।
 धूसरा—(हि.वि.) धूल लगा हुआ, मटमैला।
 धूसराह्वय—(सं.पुं.) गर्दम, गदहा।
 धूसरित—(सं.वि.) धूल से भरा हुआ, मटमैला किया हुआ।
 धूसरी—(सं.स्त्री.) एक किन्नरी का नाम।
 धूसल—(हि.वि.) देखें 'धूसरा'।
 धूस्तूर—(सं.पुं.) धतूरा।
 धूक, धूग—(हि.अव्य.) देखें 'धूक'।
 धृत—(सं.वि.) धारण किया हुआ, स्थिर किया हुआ, निश्चित, पतित, ग्रहण किया हुआ; (पुं.) तेरहवें मनु रौच्य के पुत्र का नाम; -केतु—(पुं.) वसुदेव के वह-नोई का नाम; -देवा—(स्त्री.) देवकी की एक कन्या; -पदा—(स्त्री.) गायत्री का एक भेद; -माली—(स्त्री.) अस्त्रों को निष्फल करने का एक प्राचीन अस्त्र विशेष; -राष्ट्र—(पुं.) वह देश जो अच्छे राजा के शासन में हो, एक नगर का नाम, वह कौरव राजा जो दुर्योधन के पिता और विचित्रवीर्य के पुत्र थे; -राष्ट्री—(स्त्री.) वृत्राष्ट्र की पत्नी; -वत्—(वि.) ग्रहण करनेवाला; -वर्म—(वि.) जो कवच धारण किये हो; (पुं.) एक पौराणिक राजा; -व्रत—(वि.) जिसने व्रत धारण किया हो; (पुं.) पुष्यवंशीय एक राजा का नाम।
 धृतात्मा—(सं.वि.) चित्त को स्थिर रखनेवाला, धीर; (पुं.) विष्णु।
 धृति—(सं.स्त्री.) धारण करने या पकड़ने की क्रिया, संतोष, तृप्ति, मन की दृढ़ता, गीरी आदि षोडश मातृकाओं में से एक, फलित ज्योतिष का एक योग, अठारह असुरों का एक वृत्त, दक्ष की पुत्री; (पुं.) राजा जयद्रथ का पौत्र, एक विश्वदेव का नाम, साहित्य में एक व्यभिचारी भाव; -मत्—(वि.) धैर्ययुक्त, धीरज वाला; -होम—(पुं.) विवाह के बाद करने का एक होम।
 धृत्वन्—(सं.वि.) विष्णु, धर्म, आकाश, समुद्र; (वि.) धारण करनेवाला।
 धृपञ्ज—(सं.वि.) दमन करनेवाला, दवानेवाला।
 धृपु—(सं.वि.) दक्ष, निपुण।
 धृष्ट—(सं.वि.) प्रगल्भ, निर्लज्ज, उद्धत, निर्दय, डीठ, यह नायक जो निर्लज्ज हो, जिसकी किसी प्रकार का मन न लगता हो और जो जूठी बातों से अपना दोष छिपाने का प्रयत्न करता हो; -केतु—(पुं.) नव

ग्रह या केतु का नाम, राजा शिक्षपाल के एक पुत्र का नाम; -ता-(स्त्री.) अनुचित साहस, ढिंढाई, निर्लज्जता; -द्युम्न-(पुं.) द्रुपद राजा के पुत्र और द्रौपदी के भाई, (कौरव और पाण्डवों के युद्ध में यह पाण्डवों की ओर से एक प्रधान सेना-नायक नियुक्त थे। जिस समय द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर अपना शरीर त्यागन के लिए योग में निमग्न थे उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका शिर काट डाला था।) -धी-(वि.) कठोर स्वभाव का।

धृष्टा-(सं.स्त्री.)व्यभिचारिणी स्त्री, कुलटा।
धृष्टि-(सं. पुं.) दशरथ के एक मन्त्री का नाम, यज्ञ का एक पात्र।

धृष्णज-(सं. वि.) निर्लज्ज, बेहया।

धृष्णता-(सं. स्त्री.) धृष्टता, निर्लज्जता।

धृष्णत्व-(सं. पुं.) धृष्टता।

धृष्णु-(सं. वि.) प्रगल्भ, उद्धत, ढीठ;

(पुं.) एक रुद्र का नाम, वैवस्वत मनु के एक पुत्र का नाम।

धृष्य-(सं.वि.) धर्षणीय, दमन करने योग्य।

धेन-(सं. पुं.) समुद्र, नद; (हि. स्त्री.) देखें 'धेनु', गाय।

धेना-(सं. स्त्री.) स्वाद, रस।

धेनु-(सं. स्त्री.) गाय, हाल की व्यायी हुई गाय, वच्चेवाली गाय।

धेनुक-(सं. पुं.) एक असुर जिसको वलराम ने मारा था।

धेनुका-(सं.स्त्री.) हथिनी, गाय, धनिया।

धनुकारि-(सं. पुं.) वलराम, नागकेशर का वृक्ष।

धेनुमती-(सं. स्त्री.) गोमती नदी।

धेनुमुख-(सं.पुं.) एक प्रकार का वाजा।

धनुष्टरी-(सं. स्त्री.) अच्छी गाय।

धेय-(सं. वि.) धारण करने योग्य, पोषण करने योग्य, पीने योग्य; (पुं.) धारण, पोषण।

धेर-(हि. पुं.) एक अनार्य जाति, (इस जाति के लोग खेती का काम करते हैं और मरे चौपायों का मांस खाते हैं।)

धेरिया-धेरी-(हि. स्त्री.) पुत्री, बेटी।

धेलचा, धेला-(हि.पुं.) पैसे के आठे मूल्य का ताँबे का सिक्का, अघेला।

धेली-(हि. स्त्री.) आधा रुपया, अठन्नी।

धेष्ठ-(सं.वि.) विविध रूप धारण करनेवाला

धेताल-(हि.वि.) उद्धत, चपल, चंचल।

धेनव-(सं. पुं.) गाय का वच्चा; (वि.)

से उत्पन्न।

धेना-(हि. स्त्री.) स्वभाव, काम-धंवा।

धेनुक-(सं. पुं.) गाय का समूह।

धैर्य-(सं. पुं.) चित्त की स्थिरता, धीरता, धीरज, अप्रमाद, मन में उद्वेग न उत्पन्न होने का भाव, अवधान, शांत भाव, अत्यन्त भयानक विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने कार्य से तनिक भी विचलित न होने का भाव, महा-देव; -कलित-(वि.) स्थिर, अटल;

-च्युत-(वि.) विकल, धैर्यहीन;

-शाली-(वि.) धैर्ययुक्त, शान्त।

धैर्यावलंबन-(सं.पुं.) शान्त होने की क्रिया।

धैर्यावलंबी-(सं. वि.) सहिष्णु, शान्त।

धवत-(सं. पुं.) संगीत के सात स्वरों में से छठा स्वर।

धौंडाल-(हि. वि.) जिसमें कंकड़, पत्थर के ढोंके हों।

धौंधा-(हि. पुं.) पिण्ड, लोंदा, महा शरीर; मिट्टी का धौंधा-मूर्ख, आलसी, या सुस्त आदमी।

धौई-(हि. स्त्री.) उड़द या मूंग की छिलका निकाली हुई दाल।

धौकड़-(हि. वि.) हट्टाकट्टा।

धोका-(हि. पुं.) देखें 'धोखा'।

धोखा-(हि. पुं.) दूसरे को भ्रम में डालने का व्यवहार, छल, भुलावा, दगा, भ्रम, अनिष्ट की संभावना, प्रमाद, भूल, अज्ञान, भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाली वस्तु, संशय, बेसन का बना हुआ एक पकवान, पक्षियों को डराने के निमित्त खेत में खड़ा किया हुआ पुतला, फले हुए वृक्षों पर रस्सी से बंधी हुई लकड़ी जिसको खींचने से खट-खट शब्द होता है और पक्षी उड़ जाते हैं, असार वस्तु, माया; (मुहा.)-उठाना-भ्रम में पड़कर हानि उठाना; -खाना-ठगा जाना, वंचित होना; -देना-छलना, ठगना; -पड़ना-अन्यथा होना; -रचना-किसी को ठगने के लिए उपाय रचना; -लगाना-त्रुटि या कमी होना; -लगाना-भ्रम में डालना; धोखे की टट्टी-भ्रम में डालनेवाली वस्तु; धोखे से-अज्ञान से, भूल से।

धोखेवाज (हि.वि.) धोखा देनेवाला, वंचक।

धोखेवाजी-(हि. स्त्री.) धोखा, वंचना।

धोटा-(हि. पुं.) देखें 'ढोटा'।

धोड-(सं. पुं.) एक प्रकार का सर्प।

धोतर-(हि.पुं.) एक प्रकार का मोटा वस्त्र।

धोती-(हि. स्त्री.) नौ-दस हाथ लम्बा तथा दो-ढाई हाथ चौड़ा वस्त्र जिससे

भारतवासी हिन्दू लोग कमर से लेकर पैर तक शरीर का भाग ढाँपते हैं तथा स्त्रियाँ सर्वांग ढाँपने के लिए कमर मे लपेट लेती है, एक अंगुल चौड़ी और चौवन अंगुल लम्बी कपड़े की घञ्जी जिसको हठयोगी धौति-क्रिया में प्रयोग करते हैं; (मुहा.)-ढीली होना-भयभीत होना, डर जाना।

धोना-(हि.क्रि.सं.) जल से स्वच्छ करना; पखारना, हटाना, मिटाना, दूर करना; किसी वस्तु से हाथ धोना-गंवा देना, खो बैठना; हाथ धोकर पीछे पड़ना-किसी को खूब तंग करना।

धोप-(हि. स्त्री.) खड्ग, तलवार।

धोब-(हि.पुं.) धोये जाने का काम, धुलाई।

धोबिघटा-(हि. पुं.) वह घाट जहाँ धोबी कपड़े धोते हैं।

धोबिन-(हि. स्त्री.) धोबी की स्त्री, धोबी जाति की स्त्री, एक प्रकार का पक्षी जो जल के किनारे रहता है।

धोबी-(हि. पुं.) मैले कपड़ों को धोकर स्वच्छ करनेवाला, रजक; (मुहा.)-का कुत्ता-एक स्थान पर स्थिर न रहनेवाला मनुष्य; -घास-(स्त्री.) बड़ी दूब; -पछाड़,छाट-(पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति।

धोम-(हि. पुं.) धूम्र, धूम, धुआँ।

धोर-(हि. स्त्री.) निकटता, सामीप्य, किनारा, पाढ़।

धोरण-(सं. पुं.) हाथी, घोड़े की तेज सरपट चाल, दौड़।

धोरणी-(सं. स्त्री.) परम्परा, श्रेणी।

धोरी-(हि. पुं.) भार उठानेवाला, बैल, बड़ा आदमी, मुखिया, सरदार।

धोरे-(हि. अव्य.) पास में।

धोलधक-(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष।

धोला-(हि. पुं.) हिगुआ, जवास।

धोवाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'धुलाना'।

धोवत-(हि. पुं.) धोबी।

धोवन-धोवा-(हि. पुं.) धोने या पखारने की क्रिया, वह जल जिसमें कोई वस्तु धोई गई हो।

धोवाना-(हि. क्रि. स.) धोने का काम किसी दूसरे से कराना।

धोसा-(हि. पुं.) गुड़ आदि का लोंदा।

धौं-(हि. अव्य.) मालूम नहीं, न जान, अथवा, या, अच्छा, तो, मला, कि, आ

अर्थों में यह शब्द प्रयोग किया जाता है।

धौंक-(हि.स्त्री.) अग्नि पर धौंकने से उत्पन्न वायु का झोंका, गरम हवा की लपट, ताम्र, लू, हवा का झोंका जो माथी से उत्पन्न

किया जाता है।

धौंकना—(हि. क्रि. स.) आग दहकाने के लिए उस पर भाथी आदि की धौंक पहुँचाना, ऊपर डालना, दण्ड आदि लगाना, भार डालना या पहुँचाना।

धौंकनी—(हि. स्त्री.) आग फूँकने की धातु या वाँस की सोनार की पोली नली, भाथी।

धौंका—(हि. पुं.) वायु का झोंका, लू, तीव्र वायु।

धौंकिया—(हि. पुं.) आग फूँकनेवाला, भाथी चलानेवाला, बरतनों की मरम्मत करनेवाले कारीगर जो अँगौठी, भाथी आदि लेकर नगरों की गलियों में धूमा करते हैं।

धौंकी—(हि. स्त्री.) देखें 'धौंकनी'।

धौंज, धौंजन—(हि. स्त्री.) उद्विग्नता, व्यग्रता, पबड़ाहट, दौड़-धूप।

धौंजना—(हि. क्रि. अ., स.) दौड़-धूप करना, कीट आदि को पैर से कुचलना, कुचलकर नष्ट करना।

धौंटा—(हि. पुं.) वह ढकना जो तेली के बल की आँखों पर लगाया जाता है।

धौंताल—(हि. वि.) चतुर, साहसी, निपुण, हट्टा-कट्टा, किसी धुन में लगा हुआ।

धौंधौंमर—(हि. स्त्री.) शीघ्रता, उतावली।

धौंर—(हि. स्त्री.) सफेद रंग की ऊख।

धौंस—(हि. स्त्री.) घुड़की, धमकी, डाँट-डपट, कपट, धोखा।

धौंसना—(हि. क्रि. स.) दंड देना, दमन करना, दवाना, धमकी देना, घुड़की देना, मारना, पीटना, डराना।

धौंस-पट्टी—(हि. स्त्री.) धोखा, भुलावा, दम-दिलासा।

धौंसा—(हि. पुं.) डंका, बड़ा नगाड़ा, सामर्थ्य, शक्ति।

धौंसिया—(हि. पुं.) डाँट-डपट से काम लेनेवाला, दम-दिलासा देनेवाला, नगाड़ा बजानेवाला, कर उगाहने का व्यव लेनेवाला।

धौ—(हि. पुं.) वव, एक बड़ा पहाड़ी वृक्ष।

धौत—(सं. वि.) धुला हुआ, स्वच्छ किया हुआ, नहाया हुआ, (पुं.) रूपा, चाँदी; -**कूट**—(पुं.) सूत की बनी हुई थैली; -**कौषज**—(पुं.) सोनापाठा नामक औषधि; -**खंडी**—(स्त्री.) मिस्री का टुकड़ा; -**शिल**—(पुं.) स्फटिक, बिल्लीर।

धौतय—(सं. पुं.) सैन्धव, सेंधा नमक।

धौति—(सं. स्त्री.) विशुद्धि, हठयोग में शरीर को बाहर से तथा भीतर से शुद्ध करने की क्रिया, (यह चार प्रकार की

होती है—अन्तर्वौति, दन्तवौति, हृद् वौति और मूलशोधन।

धौती—(सं. स्त्री.) थरथराहट, कँपकँपी।

धौमल—(सं. पुं.) रक्तविकार।

धौम्य—(सं. पुं.) वृम ऋषि के पुत्र जो युधिष्ठिर के पुरोहित थे।

धौम्र—(सं. वि.) धुएँ के रंग का।

धौर—(सं. पुं.) धव का वृक्ष; (हि. वि.) सफेद परेवा पक्षी।

धौरहर—(हि. पुं.) धौराहर।

धौरा—(हि. वि.) उजला; (पुं.) धव का वृक्ष, सफेद बल, एक प्रकार का पक्षी, पंडुक।

धौराहर—(हि. पुं.) ऊँची अटारी, घरहरा।

धौरित—(सं. पुं.) घोड़े की एक चाल।

धौरी—(हि. स्त्री.) सफेद गाय, कपिला।

धौरे—(हि. अव्य.) देखें 'धौरे'।

धौरेय—(सं. वि.) रथ आदि खींचनेवाला; (पुं.) गाड़ी खींचनेवाला बैल।

धौतिक—(सं. पुं.) शठत्व, शठता।

धौतय—(सं. पुं.) घूर्त मनुष्य की सन्तति।

धौत्य—(सं. पुं.) शठता, धोखे का काम।

धौर्य—(सं. पुं.) घोड़े की एक चाल।

धौल—(हि. स्त्री.) थप्पड़, तमाचा, चाँटा, धक्का, आघात, हानि या टोटा, हरा ज्वार, एक प्रकार की ऊख; (पुं.) धव का पेड़, धरहरा; -**धूर्त**—(वि.) बहुत बड़ा धूर्त; -**धक्काड़**—(पुं.) ऊधम, उपद्रव, दंगा; -**धक्का**—(पुं.) आघात, चपेट; -**धप्पड़**—(पुं.) उपद्रव, दंगा, मारपीट, धक्का-मुक्की; -**धप्पा**—(पुं.) देखें 'धौलधप्पड़'; -**हर**—(पुं.) देखें 'धौरहर'।

धौला—(हि. वि.) धवल, उजला, सफेद; (पुं.) धव का वृक्ष, सफेद बैल।

धौलाई—(हि. स्त्री.) उजलापन, सफेदी।

धौलाखैर—(हि. पुं.) ववूल की जाति का एक वृक्ष।

धौलागिरि—(हि. पुं.) देखें 'धवलगिरि'।

धौली—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसकी लकड़ी कोमल होती है और पालकी, खिलीने आदि बनाने के काम में आती है।

ध्माकार—(सं. पुं.) धम-धम का शब्द, लोहार।

ध्मापन—(सं. पुं.) जलाने की क्रिया।

ध्मापित—(सं. वि.) जलाकर राख किया हुआ।

ध्यात—(सं. वि.) ध्यान किया हुआ, विचार किया हुआ, चिन्तित।

ध्याता—(हि. पुं.) ध्यान करनेवाला,

विचार करनेवाला।

ध्यान—(सं. पुं.) बाह्य इन्द्रियों के प्रयोग के बिना केवल मन में सोचने की क्रिया या भाव, चित्त की एकाग्रता, सोच-विचार, धारणा, स्मृति, बुद्धि, समझ, भावना, सोच; (मुहा.) -**आना**-याद पड़ना; -**छूटना**-मन विचलित हो जाना; -**जाना**-चित्त की प्रवृत्ति किसी ओर होना; -**दिलाना**-चेताना, याद दिलाना; -**देना**-चित्त लगाना; -**पर चढ़ना**-याद आना; -**बैटना**-अन्य विषय की ओर मन फिर जाना चित्त एकाग्र रहना; -**बंधना**-चित्त एकाग्र होना; -**में डूबना**-अन्य बातों को भूलकर एक विषय में चित्त एकाग्र करना, ध्यान करना, लीन होना। किसी के ध्यान में लगना-किसी के चित्तन में संलग्न होना; -**में लाना**-विचार या सोच करना; -**रखना**-निरन्तर विचार बना रहना, याद किये रहना, न भूलना; -**लगना**-चित्त एकाग्र होना।

ध्यानगोचर—(सं. वि.) जो ध्यान से जाना जाय।

ध्यानना—(हि. क्रि. स.) विचार करना।

ध्यानमय—(सं. वि.) ध्यान-स्वरूप, ध्यानपूर्ण।

ध्यानयोग—(सं. पुं.) योग का वह विभाग जिसमें ध्यान ही प्रधान अंग हो, इन्द्र-जाल की एक क्रिया।

ध्यानविह्वपनिपद्—(सं. स्त्री.) अथर्ववेद की एक उपनिपद्।

ध्यानिक—(सं. वि.) जिसकी प्राप्ति या सिद्धि ध्यान के द्वारा हो, ध्यान गम्य।

ध्यानी—(हि. वि.) ध्यानयुक्त, समाधिस्थ, ध्यान करने में निगमन।

ध्याम—(सं. पुं.) दौना नामक पौधा।

ध्यामक—(हि. पुं.) एक प्रकार की सुगन्धित घास।

ध्यामन—(सं. पुं.) चिन्ता, विचार, परिमाण।

ध्येय—(सं. वि.) जिसका ध्यान किया जाय, ध्यान करने योग्य, जो ध्यान का विषय हो।

ध्राक्षा—(सं. स्त्री.) देखें 'द्राक्षा', दास।

ध्रुपद—(हि. पुं.) वह गद्य-यद्यमय गंभीर आशय का गीत जिसमें देवताओं की लीला, राजाओं का यश बयवा बड़े-बड़े युद्धों का वर्णन स्वर, ताल, राग, रागिनी आदि के संयोग या मेल से गाया जाता है।

ध्रुव—(सं. वि.) दृढ़, निश्चित, स्थिर,

अचल, ठीक, पक्का; (पुं.) सन्तति, आकाश, तर्क, शंकु, कील, खंभा, फलित ज्योतिष का एक योग, विष्णु, वरगद का वृक्ष, एक प्रकार का पक्षी, ध्रुव तारा, ध्रुवपद, वसुदेव के एक पुत्र का नाम, नहुष का एक पुत्र, पर्वत, आठ वसुओं में से एक, उत्तानपाद के एक पुत्र का नाम, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी सिराओं का चिपटा भाग जिनमें से अक्ष रेखा खींची जाती हुई मानी जाती है, रागण का एक भेद जिसमें क्रम से एक लघु, एक गुरु और पुनः तीन लघु वर्ण होते हैं।
 ध्रुवका—(सं. स्त्री.) ध्रुवपद।
 ध्रुवकेतु—(सं.पुं.) एक प्रकार का केतु तारा।
 ध्रुवक्षेम—(सं. पुं.) स्थिर निवास।
 ध्रुवगति—(सं. स्त्री.) ध्रुवपद।
 ध्रुवचरण—(सं.पुं.) रत्न ताल का एक भेद।
 ध्रुवध्रुत—(सं. वि.) अचल पर्वत को हिलानेवाला।
 ध्रुवता—(सं. स्त्री.) अचलता, दृढ़ता, स्थिरता, निश्चय।
 ध्रुवतारा—(हिं. स्त्री.) मेरु के ठीक ऊपर स्थित वह तारा जो सर्वदा ध्रुव रहता है, कभी इधर-उधर नहीं हटता।
 ध्रुवदर्शक—(सं. पुं.) सप्तर्षि-मण्डल।
 ध्रुवदर्शन—(सं. पुं.) विवाह-संस्कार के अन्तर्गत एक कृत्य जिसमें मन्त्र पढ़कर वर और वधू को ध्रुवतारा दिखलाया जाता है।
 ध्रुवधेनु—(सं. स्त्री.) वह गाय जो दुहते समय चुपचाप खड़ी रहती है।
 ध्रुवपद—(सं. पुं.) देखें 'ध्रुवपद'।
 ध्रुवमत्स्य—(सं. पुं.) दिशासूचक यन्त्र।
 ध्रुवरत्ना—(सं. स्त्री.) कुमार कार्तिकेय की एक मातृका का नाम।
 ध्रुवरेखा—(सं. स्त्री.) विपुवत् रेखा।
 ध्रुवलोक—(सं.पुं.) मर्त्यलोक के अन्तर्गत एक लोक जिसमें ध्रुव स्थित है।
 ध्रुवसंधि—(सं. पुं.) फलित ज्योतिष का एक योग।
 ध्रुवसिद्धि—(सं. पुं.) अग्निमित्र की सभा का एक वैद्य।
 ध्रुवा—(सं.स्त्री.) एक प्रकार का यज्ञपात्र।
 ध्रुवावर्त—(सं. पुं.) घोड़ों की एक मौरी का नाम।
 ध्रुवाश्च—(सं. पुं.) एक प्रकार का बड़ा घोड़ा।
 ध्वंस—(सं. पुं.) विनाश, क्षति, हानि।
 ध्वंसक—(सं.वि.) विनाशक, नाश करनेवाला।

ध्वंसकला—(सं. स्त्री.) हत्या।
 ध्वंसन—(सं. पुं.) नाश करने की क्रिया, ध्वंश, नाश, अधःपतन, क्षय।
 ध्वंसित—(सं.पुं.,वि.) खंडहर, नाश किया हुआ।
 ध्वंसी—(सं.वि.) नाश करनेवाला; (पुं.) पहाड़ी पीलू का वृक्ष।
 ध्वज—(सं. पुं.) ध्वजा लेकर चलनेवाला मनुष्य, चिह्न, गव, अभिमान, खाट की पाटी, मेड़, लिंग, पताके का डंडा, झंडा; -गृह—(पुं.) वह घर जिस पर झंडा फहराया जाता है; -ग्रीव—(पुं.) एक राक्षस का नाम; -द्रुम—(पुं.) ताड़ का वृक्ष; -प्रहरण—(पुं.) वायु, हवा; -भंग—(पुं.) नपुंसकता; -मंत्र—(पुं.) वह मंत्र जिसे पढ़कर ध्वजा फहराई जाती है; -ग्रष्टि—(स्त्री.) झंडे का डंडा; -वत्—(वि.) चिह्नयुक्त, ध्वज जैसा।
 ध्वजांशुक—(सं. पुं.) झंडे का कपड़ा।
 ध्वजा—(सं. स्त्री.) पताका, झंडा, मल-खंभ का एक व्यायाम, छन्दःशास्त्र के अनुसार ऋण का पहिला-भेद।
 ध्वजारोपण—(सं. पुं.) देवालय तथा अट्टालिकाओं पर पताका फहराना।
 ध्वजिक—(सं. वि.) धर्मध्वजी, पाखण्डी।
 ध्वजिनी—(सं. स्त्री.) सेना का एक भेद, पाँच प्रकार की सेनाओं में से एक।
 ध्वजी—(हिं. वि.) ध्वजयुक्त, जो पताका लिये हो, चिह्नयुक्त; (पुं.) ब्राह्मण, पर्वत, संग्राम, सर्प, घोड़ा, मयूर, मोर।
 ध्वजोत्थान—(सं. पुं.) भाद्रपद मास की शुक्ला द्वादशी के दिन मनाया जानेवाला एक उत्सव।
 ध्वन—(सं. पुं.) शब्द।
 ध्वनन—(सं. पुं.) अव्यक्त शब्द।
 ध्वनमोदिन्—(सं. पुं.) भ्रमर, मौरी।
 ध्वनि—(सं. स्त्री.) वह जिसका ज्ञान श्रवण-न्द्रिय द्वारा होता है, मृदंगादि शब्द, नाद, गुंजन, वैयाकरणों के अनुसार शब्द का स्फोट, लय, वह काव्य जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक विशेषता रहती है अर्थात् जब व्यंजना-वोधित अर्थ वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार दिखलाता है, गूढार्थ, आशय।
 ध्वनिकाव्य—(सं.पुं.) उत्तम प्रकार का काव्य।
 ध्वनिग्रह—(सं. पुं.) श्रोत्र, कर्ण, कान।
 ध्वनित—(सं. वि.) शब्द किया हुआ, प्रकट किया हुआ, वजाया हुआ; (पुं.) भृदंगादि वाजा।

ध्वनिनाला—(सं. स्त्री.) वेणु, बाँपुरी, एक प्रकार का बड़ा ढोल।
 ध्वनिबोधक—(सं.पुं.) रोहिश नामक घास।
 ध्वनिविकार—(सं. पुं.) विकृत ध्वनि, ध्वनि का अन्यथा भाव।
 ध्वन्य—(सं. पुं.) व्यंग्यार्थ।
 ध्वन्यात्मक—(सं. वि.) ध्वनिमय, ध्वनि-स्वरूप, जिस काव्य में ध्वनि प्रधान हो।
 ध्वन्यार्थ—(हिं. पुं.) वह अर्थ जिसका बोध वाच्यार्थ से न होकर केवल ध्वनि या व्यंजना से हो।
 ध्वसन—(सं. पुं.) ध्वंस का स्थान।
 ध्वसनि—(सं. पुं.) मेघ, बादल।
 ध्वसित—(सं. वि.) जिसका नाश हुआ हो।
 ध्वस्त—(सं. वि.) गिरा-पड़ा हुआ, नष्ट-भ्रष्ट, टूटा हुआ, पराजित।
 ध्वस्ति—(सं. स्त्री.) ध्वंस, नाश, क्षय।
 ध्वस्यन्—(सं. वि.) ध्वंसक, नाश करनेवाला।
 ध्वल—(सं. वि.) ध्वंसक, नाश करनेवाला।
 ध्वांक्ष—(सं. पुं.) काक, कौवा, बगला, भिक्षुक; -जंघा—(स्त्री.) काकजंघा; -दंडो—(स्त्री.) कौवाठोठी; -पुष्ट—(पुं.) कोकिल, कोयल; -माची—(स्त्री.) का कमाची, मकोय।
 ध्वांक्षी—(सं. स्त्री.) शीतलचीनी।
 ध्वांत—(सं. पुं.) अन्धकार, अँधेरा, एक नरक जहाँ सर्वदा अँधेरा रहता है; -चर—(पुं.) दानव, निशाचर, राक्षस; -वित्त—(पुं.) खद्योत, जुगनु; -शात्रव—(पुं.) सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा।
 ध्वांताराति—(सं. पुं.) सूर्य, चन्द्र, अग्नि।
 ध्वांतोन्मेष—(सं. पुं.) खद्योत, जुगनु।
 ध्वान—(सं. पुं.) शब्द, आवाज।

न

न-हिन्दी तथा संस्कृत व्यंजन वर्ण का वीसवाँ वर्ण तथा तवर्ग का पाँचवाँ अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान दन्त है। (सं. अव्य.) निषेधवाचक शब्द, मत, हाँ या नहीं, कि नहीं; (पुं.) उपमा, बन्ध, नकार स्वरूप वर्ण, सुवर्ण, रत्न।
 नंग—(हिं. पुं.) नग्नता, नंगा होने का भाव, गुप्त अंग, शरीर का छिपा हुआ भाग; (वि.) नंगा, लुच्चा।
 नंगघडंग—(हिं.वि.) नंगा, दिगम्बर, जिसके शरीर-पर एक भी वस्त्र न हो।
 नंगमनंगा—(हिं. वि.) देखें 'नंगघडंग'।
 नंगर—(हिं. पुं.) देखें 'लंगर'।

नंगरवारी—(हि. स्त्री.) समुद्र में चलने-वाली एक मस्तूल की नाव ।
 नंगा—(हि. वि.) नग्न, वस्त्रहीन, जो कपड़ा न पहिने हो, प्रकट, जो किसी वस्तु से ढपान न हो, खुला हुआ, बिना ढपाने का, दृष्ट, निर्लज्ज; (पुं.) शिव, महादेव, कश्मीर की सीमा पर का एक पर्वत;
 -शोरी, -शोली—(स्त्री.) किसी छिपाई हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किसी मनुष्य के पहिने हुए वस्त्रों को उतरवाकर अथवा वस्त्र को मली भाँति हाथों से टटोलकर देखना; -गंगा—(वि.) जिसके शरीर पर कोई वस्त्र न हो, नंग-घडंग;
 -बुच्चा, -बूच्चा—(वि.) अति दरिद्र, कंगाल, जिसके पास कुछ भी न हो;
 -मादरजाद—(वि.) ऐसा नंगा जैसा शिशु माता के उदर से निकलने के समय होता है; -मूंगगा (पुं.) विलकुल नंगा;
 -लुच्चा—(वि.) नीच और पाजी ।
 नंगियाना—(हि. क्रि.स.) नंगा करना, शरीर पर से वस्त्र उतार लेना, सर्वस्व हरण करना, कुछ भी पास न रहने देना ।
 नन्द—(सं. पुं.) आनन्द, हर्ष, खुशी, हर्षात्मक ध्वनि, परमेश्वर, मेढक, एक प्रकार की वीणा, कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम, एक प्रकार का मृदंग, घृत-राष्ट्र के एक पुत्र का नाम, विष्णु, एक राग का नाम, नवनिधियों में से एक, पुत्र, लड़का, महात्मा बुद्ध के सीतेले भाई का नाम, गोपराज नन्द; (मथुरा के अन्तर्गत यमुना नदी के उस पार गोकुल नाम का नगर था। इसी नगर के अधिपति नन्द थे जिनकी स्त्री का नाम यशोदा था। देवकी के गर्भ से भगवान् श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था और वसुदेव श्रीकृष्ण को उस समय नन्द के घर पर रख आये थे। बाल्यावस्था में श्रीकृष्ण नन्द के ही घर पर रहते थे); -क—(पुं.) विष्णु का खड्ग, मेढक, कार्तिकेय का एक अनुचर, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; (वि.) आनन्द देनेवाला, सन्तोष देनवाला, वंश की रक्षा करनेवाला;
 -फि—(स्त्री.) पिप्पली, छोटी पीपल;
 -कुमार—(पुं.) नन्द के पुत्र, श्रीकृष्ण;
 -गिरि—(पुं.) एक प्राचीन नगर का नाम जो चित्तौर के पास बसा हुआ था; -ग्राम—(पुं.) नन्दगाँव, अयोध्या के पास का एक गाँव जहाँ भरत ने तपस्या की थी;

-नन्दन—(पुं.) श्रीकृष्ण; -नंदिनी—(स्त्री.) नन्द की पुत्री, योगमाया;
 -न—(पुं.) इन्द्र का वगीचा जो स्वर्ग में है, अठारह अक्षरों के एक वर्ण-वृत्त का नाम, घेटा, लड़का, विष्णु, महादेव, कार्तिकेय का एक अनुचर, मेक, मेढक, एक संवत्सर का नाम, एक प्रकार का अस्त्र, देवदार; (वि.) आनन्द देनेवाला; -०ज—(पुं.) श्रीकृष्ण, हरिचन्दन; -०प्रदान—(पुं.) नन्दनवन के स्वामी इन्द्र; -०माला—(स्त्री.) एक प्रकार की माला जो श्रीकृष्ण को बहुत प्रिय थी; -०वत—(पुं.) इन्द्र का वगीचा, कपास; -पाल—(पुं.) वरुण;
 -पुत्री—(स्त्री.) नन्दनन्दिनी, योगमाया, दुर्गा; -प्रयाग—(पुं.) वदरिकाश्रम के निकट के एक तीर्थ का नाम; -यन्—(वि.) प्रसन्न करनेवाला; -रानी—(हि. स्त्री.) नन्द की स्त्री, यशोदा; -रुख—(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष जिसकी पत्तियाँ रेशम के कीड़ों को खिलाई जाती हैं; -लाल—(हि. पुं.) नन्द के पुत्र, श्रीकृष्ण; -वन—(पुं.) देख 'नन्दनवन' ।

नंदा—(सं. स्त्री.) दुर्गा का एक नाम, एक प्रकार की संक्रान्ति, एक कामधेनु का नाम, प्रसन्नता, संगीत में एक मूर्च्छना का नाम, एक अप्सरा का नाम, बरवै छन्द, पति की बहन, नन्द, लाल तुलसी ।
 नंदात्मज—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण; नंदात्मजा—(स्त्री.) योगमाया ।
 नंदादेवी—(सं. पुं.) पश्चिमी हिमालय की एक चोटी जो पचीस हजार फुट ऊँची है ।
 नंदापुराण—(सं. पुं.) एक उपपुराण का नाम ।
 नंदावत—(सं. पुं.) एक प्रकार की मछली ।
 नंदि—(सं. पुं.) विष्णु, परमेश्वर, शिव का द्वारपाल, वैल, एक प्रकार का जुआ, शिव, महादेव, एक गन्धर्व का नाम, आनन्द, प्रसन्नता ।
 नंदिफ—(सं. पुं.) तुन का वृक्ष, धव का पेड़ ।
 नंदिफर—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 नंदिफा—(सं. स्त्री.) नन्दनवन, पानी रखने की मिट्टी की नाँद हंसमुख स्त्री, किसी पक्ष की प्रतिपदा, पण्डी और एकादशी तिथियों का नाम ।
 नंदिफेश—(सं. पुं.) शिव का द्वारपाल, नंदिफेश्वर ।
 नंदिफेश्वर—(सं. पुं.) शिव के द्वारपाल वैल का नाम ।
 नंदिघोष—(सं. पुं.) अर्जुन के रथ का

नाम, मंगल-घोषणा ।
 नंदिन—(सं. वि.) आनन्दित, प्रसन्न ।
 नंदिनर—(सं. पुं.) धव का पेड़ ।
 नंदि-तूर्य—(सं. पुं.) एक प्रकार का प्राचीन बाजा ।
 नंदिनी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की मछली ।
 नंदिनी—(सं. स्त्री.) गंगा, नन्द, कन्या, पुत्री, वसिष्ठ की कामधेनु जो सुरभि से उत्पन्न थी, पत्नी, कार्तिकेय की एक मातृका का नाम, तेरह अक्षरों का एक वर्णवृत्त, दुर्गा, हरीतकी, हर, सफेद चिचड़ा ।
 नंदिपादप—(सं. पुं.) तुन का वृक्ष ।
 नंदिपुराण—(सं. पुं.) एक उपपुराण का नाम ।
 नंदिमुख—(सं. पुं.) एक प्रकार का चावल, शिव ।
 नंदिशद—(सं. पुं.) महादेव का एक नाम ।
 नंदिशर्वन—(सं. पुं.) शिव, महादेव, पुत्र, मित्र; (वि.) आनन्द बढ़ानेवाला ।
 नंदिशूक्ष—(सं. पुं.) नंदी वृक्ष ।
 नंदिशूष्ण—(सं. पुं.) उड़द, माप ।
 नंदी—(सं. पुं.) पुत्र, शिव का वाहन, शिव का एक गण, विष्णु, वरगद का पेड़, दागकर छोड़ा हुआ साँड़ ।
 नंदीघंटा—(हि. पुं.) वैल के गले में बाँधने की घंटी ।
 नंदीपति—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 नंदीवृक्ष—(सं. पुं.) सुगन्धित तुन का वृक्ष ।
 नंदीश—(सं. पुं.) शिव, महादेव, एक ताल का नाम ।
 नंदीश्वर—(सं. पुं.) शिव, शिव का द्वारपाल ।
 नंदीई—(हि. पुं.) पति का बहनोई, नन्द का पति ।
 नंदीला—(हि. पुं.) मिट्टी की बड़ी नाँद ।
 नंदीसी—(हि. पुं.) देखें 'नंदीई' ।
 नंदर—(अं. पुं.) गिनती, संख्या, अंक ।
 नंदरदार—(हि. पुं.) गाँव का वह मूस्वामी जो अपनी पट्टी का तथा हिस्सेदारों का कर आदि लेता या तथा सरकारी कर जमा करता था ।
 नंदरवार—(हि. ग्रन्थ.) यथाक्रम, एक-एक करके ।
 नंदरी—(हि. वि.) जिस पर नंदर या संख्या लिखी हो, नंदरवाला, प्रसिद्ध;
 -नाज—(पुं.) तीन फुट का गज; -तेर—(पुं.) अस्ती रूपों की तौल का लोहे का सेर या बाट ।
 नंदा—(सं. पुं.) ध्वंस, नाश ।

नशान—(स. पुं.) नाश, ध्वंस ।
 नशुक—(सं. वि.) नाश करनेवाला; (पुं.) छोटा टुकड़ा, अणु ।
 नश्टव्य—(सं. वि.) नाश करने योग्य ।
 नस—(हि. पुं.) ध्वंस, नाश ।
 नइहर—(हि. पुं.) स्त्रियों की माता का घर, मायका ।
 नई—(हि. वि.) 'नया' शब्द का स्त्रीलिंग रूप, देखें 'नयी'; (हि. वि.) नीतिज्ञ ।
 नउंजी—(हि. स्त्री.) लीची नाम का फल ।
 नउ—(हि. वि., पुं.) नव, नौ ।
 नउआ—(हि. पुं.) नापित, नाऊ, हज्जाम ।
 नउका—(हि. स्त्री.) देखें 'नौका', नाव ।
 नउत—(हि. वि.) वह जो नीचे की ओर झुका हो ।
 नउरंगी—(हि. स्त्री.) नारंगी ।
 नउर—(हि. पुं.) 'देखें' नेवला, नेउर ।
 नउलि—(हि. वि.) नवीन, नया ।
 नएपंज—(हि. पुं.) पाँच साल का जवान घोड़ा ।
 नओढ़—(हि. वि.) देखें 'नवोढ़ा' ।
 न—(हि. अव्य.) नहीं ।
 नकंद—(हि. पुं.) एक प्रकारका अच्छा चावल ।
 नक—(हि. पुं.) 'नाक' का कुछ समस्त पदों में आदि-पद के रूप में प्रयुक्त होनेवाला रूप ।
 नककटा—(हि. वि.) जिसकी नाक कटी हो, निर्लज्ज, जिसकी बड़ी दुर्दशा हुई हो, अप्रतिष्ठित ।
 नककटी—(हि. स्त्री.) नाक काटने की क्रिया, अप्रतिष्ठा, दुर्दशा; (वि.) 'नककटा' का स्त्रीलिंग रूप ।
 नकधिसनी—(हि. स्त्री.) भूमि पर नाक धिसने की क्रिया, अति दीनता ।
 नकचड़ा—(हि. वि.) बुरे स्वभाव का, चिड़चिड़ा ।
 नकछिकनी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास जिसके फल को सूँघने से बहुत छींक आती है ।
 नकटा—(हि. पुं.) वह जिसकी नाक कट गई हो, विवाह के समय गान का एक गीत, एक प्रकार की चिड़िया; (वि.) जिसकी नाक कटी हो, निर्लज्ज, जिसकी बड़ी दुर्दशा हुई हो ।
 नकटेसर—(हि. पुं.) एक प्रकार का पौधा ।
 नकड़ा—(हि. पुं.) वैलों की नाक फूल जाने का एक रोग ।
 नकतोड़—(हि. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
 नकतोड़ा—(हि. पुं.) नाक-भौं सिकोड़कर बड़े गर्व के साथ चोचला करना ।

नकद—(हि. वि., पुं.) देखें 'नगद' ।
 नकदी—(वि.) देखें 'नगदी' ।
 नकना—(हि. क्रि. अ., स.) नाक में दम होना, उल्लघन करना, त्यागना ।
 नकफूल—(हि. पुं.) नाक में पहिने का एक आभूषण, नाक में पहिने की लौंग ।
 नकब—(अ. स्त्री.) सेंध; -जनी—(स्त्री.) सेंध मारकर चोरी करना ।
 नकवानी—(हि. स्त्री.) व्यग्रता, नाक में दम ।
 नकबसर—(हि. स्त्री.) नाक में पहिने की छोटी नथ ।
 नकभोती—(हि. पुं.) नाक में पहिने का मोती या बुलाक, नथ का लटकन ।
 नकल—(अ. स्त्री.) किसी वस्तु के सदृश बनाई गई प्रतिमा, चित्र, लेख आदि, अनुकृति, प्रतिलिपि, अनुकरण; -ची—(वि.) नकल करनेवाला; -नवीस—(पुं.) लेखों की नकल उतारनेवाला कर्मचारी; -नवीसी—(स्त्री.) नकल-नवीस का कार्य, पद आदि; -वही—(स्त्री.) वह वही जिसमें आवश्यक बातों की नकल रखी जाती है ।
 नकली—(अ. वि.) नकल-संबंधी, असली का विलोम, खोटा, जाली ।
 नकलेल—(हि. स्त्री.) वैल की नाक की रस्ती ।
 नकशा—(हि. पुं.) मानचित्र ।
 नकशी—(हि. वि.) प्रतिलिपि-संबंधी; -मैना—(स्त्री.) एक प्रकार की मैना ।
 नकसा—(हि. पुं.) मानचित्र ।
 नकसीर—(हि. स्त्री.) आप से आप नाक से लोहू वहना जो बहुधा गरमी के दिनों में होता है; (मुहा.) -भी नफूटना-थोड़ा भी कष्ट न होना ।
 नकाना—(हि. क्रि. अ., स.) नाक में दम होना, व्यग्र करना ।
 नकाव—(अ. पुं.) चेहरा छिपाने का रंगीन या जालीदार कपड़ा; -पौश—(वि.) जिसने नकाव से अपना चेहरा छिपाया हो ।
 नकार—(सं. पुं.) 'न' स्वरूप वर्ण, नहीं, अस्वीकार ।
 नकारची—(हि. पुं.) देखें 'नक्कारची' ।
 नकारना—(हि. क्रि. अ.) अस्वीकार करना ।
 नकाश—(हि. पुं.) नकाशी करनेवाला ।
 नकाशना—(हि. क्रि. स.) धातु, पत्थर आदि पर बेल-बूटे बनाना ।
 नकाशी—(हि. स्त्री.) धातु आदि पर खोदकर चित्रकारी करने का काम, नक्काशी ।
 नकास—(हि. पुं.) देखें 'नक्काश' ।
 नकासना—(हि. क्रि. स.) नकाशी करना ।
 नकासी—(हि. स्त्री.) देखें 'नक्काशी' ;

-दार—(वि.) जिस पर नकाशी की गई हो
 नक्कचन—(सं. वि.) दरिद्र, कंगाल ।
 नकियाना—(हि. क्रि. अ., स.) अनुनासिक उच्चारण करना, नाक से बोलना, अति दुःखी होना, नाक में दम करना, कष्ट देना ।
 नक्कीव—(अ. पुं.) वह भाट या बंदी जो वादशाह या नवाब की सवारी के आगे उनका यश-गान करता चलता हो, चारण ।
 नकुंच—(सं. पुं.) मदार का पेड़ ।
 नकुटी—(सं. पुं.) नासिका, नाक ।
 नकुल—(सं. पुं.) एक सर्पहारी जंतु, नेवला, महादेव, शिव, पाण्डु राजा के चौथे पुत्र का नाम जो माद्री से उत्पन्न थे, पुत्र, बेटा; (वि.) कुलरहित, जिसका कुल न हो ।
 नकुलक—(सं. पुं.) एक प्रकार का प्राचीन आभूषण, रूप रखने की थैली ।
 नकुला—(सं. स्त्री.) पार्वती ।
 नकुलारि—(सं. पुं.) विडाल, विलैया ।
 नकुली—(सं. स्त्री.) नेवले की मादा, कुक्कुटी, मुर्गी, जटामासी ।
 नकुलीश—(सं. पुं.) तान्त्रिकों के एक भैरव का नाम ।
 नकुवा—(हि. पुं.) नासिका, नरक, तराजू की डंडी में का छेद ।
 नकेल—(हि. स्त्री.) ऊट, वैल आदि की नाक में बंधी हुई रस्ती, मुहार; (मुहा.) किसी की नकेल हाथ में लेना—किसी को अपने वश में करना ।
 नक्का—(हि. पुं.) सूई का छेद, नाका, ताश के पत्ते का एक्का, कौड़ी ।
 नक्कार—(हि. पुं.) तिरस्कार, अवज्ञा, अपमान ।
 नक्कारखाना—(फा. पुं.) वह स्थान जहाँ नक्कारा या नौवत बजती हो, नौवतखाना ।
 नक्कारची—(फा. पुं.) नक्कार या नगाड़ा बजानेवाला ।
 नक्कारा—(फा. पुं.) नगाड़ा, नौवत ।
 नक्काल—(फा. पुं.) नकल करनेवाला, स्वांग बनानेवाला, भाँड़ ।
 नक्काली—(फा. स्त्री.) नक्काल का काम, स्वांग ।
 नक्काश—(अ. पुं.) जो नक्काशी करता हो, रंगसाज ।
 नक्काशी—(अ. स्त्री.) लकड़ी, धातुपट आदि पर बेल-बूटे बनाने की कला या कौशल, ऐसे बनाये गये बेल-बूटे ।
 नक्की—(हि. स्त्री.) ताश के पत्ते की एक्की, जुए में वह दाँव जिसमें जीत के लिए एक का चिह्न नियत हो; -मूठ—(स्त्री.) एक प्रकार का जुआ जो

कौड़ियों से खेला जाता है।
 नक्कू—(हि.वि.) वड़ी नाकवाला, सब से भिन्न आचरणवाला, सब से उलटा काम करनेवाला।
 नक्तंचर—(सं.पुं.) राक्षस, गुग्गुल, चोर, विल्ली; नगाड़ा; (वि.) रातमें घूमनेवाला।
 नक्तंचर्या—(सं.स्त्री.) रात में घूमने का काम।
 नक्तंजात—(सं.वि.) जो रात में उत्पन्न हो।
 नक्तंतन—(सं.वि.) रात में होनेवाला।
 नक्त—(सं.पुं.) रात्रि; -क—(पुं.) गूदड़, चिथड़ा, आँख की पलक; -चर—(पुं.) शिव, महादेव, रात को घूमनेवाला, राक्षस, उल्लू; -चारी—(पुं.) विल्ली, उल्लू, राक्षस; -न—(पुं.) रात्रि, रात; -प्रभव—(वि.) रात को उत्पन्न होनेवाला; -भोजी—(वि.) रात को भोजन करनेवाला; -माल—(पुं.) करंज का वृक्ष; -मुखा—(स्त्री.) रात्रि, रात; -व्रत—(पुं.) एक व्रत जो अगहन सुदी प्रतिपदा को किया जाता है; (रात में विष्णु की पूजा होती है तथा तारा देखकर भोजन किया जाता है), शिव, महादेव, राजा पृथु के पुत्र का नाम, वह व्रत जिसमें दिन कोखाया नहीं जाता, रात को खाया जाता है।
 नक्तांध—(सं.वि.) जिसको रतींधी हुई हो, जिसको रात में न सूझता हो।
 नक्ता—(सं.स्त्री.) रात्रि, हलही, कलियारी नामक विपैला पीवा, एक प्रकार की घास।
 नक्ताह—(सं.पुं.) करंज का वृक्ष।
 नक्ति—(सं.स्त्री.) रात्रि, रात।
 नक्द—(अ.पुं.) मुद्रा, रुपया, पैसा, रकम।
 नक्दी—(अ.स्त्री.) रोकड़।
 नक्र—(सं.पुं.) कुम्भीर, मगर, घड़ियाल, नासिका, नाक; -राज—(पुं.) घड़ियाल, मगर।
 नक्का—(सं.स्त्री.) नासिका, नाक, मचु-मक्खी का झुंड।
 नक्का—(अ.पुं.) तसवीर, चित्र, फूल-पत्ती या बेल-बूटा, नक्काशी; (वि.) चित्रित, अंकित; -दार—(वि.) चित्रित, बेल-बूटेदार; -बंद—(पुं.) नक्शा या चित्र बनानेवाला; -बंदी—(स्त्री.) चित्रसजी।
 नक्शा—(अ.पुं.) मानचित्र, तसवीर, चित्र, चेहरा, आकृति, मकान, सड़क आदि का चित्र या रूपरेखा; -नवीस—(पुं.) नक्शा बनानेवाला; -नवीसी—(स्त्री.) नक्शा बनाने का काम या कला, नक्शा-घंटी; -बंद—(पुं.) नक्शानवीस।

नक्षत्र—(सं.पुं.) तारों का वह पुंज या समूह जो चन्द्रमा के पथ में घूमता है, पहिचान के लिए इनके भिन्न-भिन्न नाम रख गये हैं। इनकी संख्या सत्ताईस है। इनके नाम—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती हैं; -चक्र—(पुं.) राशिचक्र; -चित्तामणि—(पुं.) एक प्रकार का कल्पित रत्न जिसके विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि उससे जो कुछ मांगा जाय वह मिलता है; -ज—(वि.) जो नक्षत्र से उत्पन्न हो; -जात—(पुं.) नक्षत्र जिस में किसी का जन्म हो; -दर्शी—(वि.) नक्षत्रों को देखनेवाला; (पुं.) गणक, ज्योतिषी; -दान—(पुं.) नक्षत्रों के भेद के अनुसार विशेष द्रव्यों का दान; -नाथ—(पुं.) चन्द्र, चन्द्रमा; -नेमि—(पुं.) ध्रुवतारा, चन्द्रमा, विष्णु; -प—(पुं.) चन्द्र, चन्द्रमा; -पति—(पुं.) चन्द्रमा; -पथ—(पुं.) नक्षत्रों के घूमने का मार्ग; -फल—(पुं.) नक्षत्र-समूह का फल; -भोग—(पुं.) राशिचक्र में स्थित नक्षत्रों का एक दिन का भोग; -मार्ग—(पुं.) नक्षत्रपथ; -माला—(स्त्री.) नक्षत्रों की श्रेणी, सत्ताईस मोतियों का हार; -मालिनी—(स्त्री.) जातीपुष्प, अड़हुल का फूल; -योग—(पुं.) नक्षत्रों के साथ अरिष्ट-ग्रहों का योग; -योनि—(स्त्री.) वह नक्षत्र जो विवाह के लिए निषिद्ध हो; -राज—(पुं.) नक्षत्रों के अविपति, चन्द्रमा; -लोक—(पुं.) पुराण के अनुसार वह लोक जिसमें नक्षत्र घूमते हैं; -व्रत—(पुं.) नक्षत्रों के घूमने का पथ; -विद्या—(स्त्री.) ज्योतिष विद्या; -वृष्टि—(पुं.) उल्कापात, तारा टूटना; -व्यूह—(पुं.) पुरुष और द्रव्य विभेद का शुभाशुभ सूचक नक्षत्र समूह; -व्रत—(पुं.) नक्षत्र-योगके निमित्त किया जानेवाला व्रत; -शूल—(पुं.) पूर्वादि दिशा में धात्रा करने के समय जो नक्षत्र फलित ज्योतिष के अनुसार निषिद्ध माने गये हैं; -सत्र—(पुं.) नक्षत्र के निमित्त यज्ञ; -सायक—(पुं.) शिव, महादेव; -सायन—(पुं.) वह गणना

जिसके अनुसार यह जाना जाता है कि अमुक ग्रह पर अमुक नक्षत्र इतने समय तक रहता है।
 नक्षत्रामृत—(सं.पुं.) बारह निदिष्ट नक्षत्रों का योग।
 नक्षत्रिन्—(सं.पुं.) चन्द्रमा, विष्णु।
 नक्षत्रिय—(सं.पुं.) जो क्षत्रिय न हो।
 नक्षत्री—(हि.वि.) जो शुभ नक्षत्रों में उत्पन्न हुआ हो, माग्यवान्।
 नक्षत्रेश—(सं.पुं.) चन्द्रमा, कपूर, सीप।
 नक्षत्रेश्वर—(सं.पुं.) चन्द्रमा।
 नक्षत्रेष्टि—(सं.स्त्री.) नक्षत्रारिष्ट के उद्देश्य से किया जानेवाला यज्ञ।
 नख—(सं.पुं.) अँगुली के अगले भाग की कोमलास्थि, कररुह, नखी नामक गन्ध-द्रव्य, खण्ड, टुकड़ा।
 नर्तनी—(सं.स्त्री.) नाखून काटने की नहरनी।
 नखकुट्ट—(सं.पुं.) नाई।
 नखक्षत—(सं.पुं.) नह गड़ने से बना हुआ चिह्न या धाव।
 नखखादिन्—(सं.वि.) दाँतों से नह कुतरनेवाला।
 नखच्छत—(हि.पुं.) देखें 'नखक्षत'।
 नखच्छेदन—(सं.पुं.) नख काटना।
 नखचारिन्—(सं.वि.) पंजे के बल चलनेवाला।
 नखजाग्र—(सं.पुं.) नह का अगला भाग।
 नखत, नखतर—(हि.पुं.) देखें 'नक्षत्र'।
 नखता—(हि.पुं.) एक प्रकार का पक्षी।
 नखतेस—(हि.पुं.) चन्द्रमा।
 नखदारण—(सं.पुं.) नहरनी।
 नखना—(हि.क्रि.अ.,सं.) उल्लंघन होना या करना, नष्ट करना।
 नखनिष्कंतन—(सं.पुं.) नहरनी।
 नखपद—(सं.पुं.) नह का चिह्न।
 नखपर्णी—(सं.स्त्री.) वृश्चिका घास।
 नखपुष्पफला—(सं.स्त्री.) सफेद सेम।
 नखपूर्विका—(सं.स्त्री.) हरी सेम।
 नखफलिनी—(सं.स्त्री.) एक प्रकार की सेम।
 नखभेद—(सं.पुं.) कुलद्वय, कुलथी।
 नखमुच—(सं.पुं.) धनुष, निरौंजी का वृक्ष; (वि.) नाखून काटनेवाला।
 नखरंजनी—(सं.स्त्री.) नहरनी।
 नखर—(सं.पुं.) नख, एक प्रकार का प्राचीन मस्त्र।
 नखरचनी—(हि.स्त्री.) नैहदी का पीवा।
 नखरा—(फा.पुं.) नायिका की विलास-ज्येष्ठा, चोचला, हायमाय, नाज-अरा, दिग्वाटी अस्त्रीकृति, बनना।
 नखरा-तिल्ला—(फा.पुं.) नखरा, चोचला।

नखरायुध—(सं. पुं.) सिंह, व्याघ्र, कुत्ता ।
 नखरी—(सं. स्त्री.) नखी नामक गन्ध-द्रव्य ।
 नखरेखा—(सं. स्त्री.) नख का चिह्न ।
 नखरेवाज—(फा. वि.) नखरा करनेवाला ।
 नखरेवाजी—(फा. स्त्री.) नखरा, हाव-
 भाव, चोचला ।
 नखरीट—(हि. स्त्री.) शरीर पर का नाखून
 गड़ने से बना हुआ चिह्न या घाव ।
 नखविंदु—(सं. पुं.) गोल या चन्द्राकार
 चिह्न जिसको स्त्रियाँ मेहदी से अपने
 नहों पर बनाती हैं ।
 नखविष—(सं. पुं.) वह जिसके नख में विष
 हो, नख में एकत्रित मैल, उसका विष ।
 नखविष्कर—(सं. पुं.) वह पशु जो अपने
 शिकार को नख से फाड़कर खाता है ।
 नखवृक्ष—(सं. पुं.) नील का पेड़ ।
 नखशंख—(सं. पुं.) छोटा शंख ।
 नखशस्त्र—(सं. पुं.) नहरनी ।
 नखशिख—(हि. पुं.) नख से लेकर शिखा
 तक सब अंग, शरीर का प्रत्येक अंग ।
 नखशूल—(सं. पुं.) नख का एक रोग ।
 नखहरणी—(सं. पुं.) नहरनी ।
 नखाक—(सं. पुं.) नख गड़ने का चिह्न ।
 नखाकर—(सं. पुं.) नख ।
 नखांग—(सं. पुं.) नख नामक गन्ध-द्रव्य ।
 नखाघात—(सं. पुं.) नख का क्षत ।
 नखानखि—(सं. अव्य.) परस्पर नख से
 आघात करने का युद्ध ।
 नखायुध—(सं. पुं.) शेर, बाघ, कुत्ता ।
 नखारि—(सं. पुं.) शिव के एक अनुचर
 का नाम ।
 नखालि—(सं. पुं.) छोटा शंख, नख की पंक्ति ।
 नखालु—(सं. पुं.) नील का पौधा ।
 नखाशी—(सं. वि.) नख की सहायता से
 भक्षण करनेवाला; (पुं.) उल्लू पक्षी ।
 नखास—(अ. पुं.) वह बाजार जिसमें
 चौपाये और विशेषकर घोड़े विकते
 हैं, कोई बाजार ।
 नखिन्—(सं. पुं.) सिंह, व्याघ्र, शिकार
 को नख से फाड़कर खानेवाला पशु ।
 नखियाना—(हि. क्रि. स.) नहँ गड़ाना ।
 नखी—(सं. स्त्री.) नख नामक गन्ध-द्रव्य ।
 नखेद—(हि. पुं.) निपेच ।
 नखोटना—(हि. क्रि. स.) नख से नोचना ।
 नग—(सं. पुं.) पर्वत, पहाड़, वृक्ष, पादप,
 पेड़, सर्प, सूर्य, सात की संख्या; (वि.)
 स्थिर, अचल, न चलने-फिरनेवाला ।
 नग—(फा. पुं.) अँगूठी अथवा अन्य
 आभूषणों में जड़ने का रंगीन शीशे का
 टुकड़ा या रत्न, नगीना, संख्या ।

नगज—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी; (वि.)
 —जो पर्वत से उत्पन्न हो ।
 नगजा—(सं. स्त्री.) पार्वती, पापाण-
 भेदी लता ।
 नगजित—(सं. पुं.) पापाणभेदक (पौधा) ।
 नगण—(सं. पुं.) पिंगल तथा छंदःशास्त्र
 में तीन लघु अक्षरों का एक गण ।
 नगणा—(सं. स्त्री.) इंगुदी, मालकंगनी ।
 नगण्य—(सं. वि.) गणना न करने योग्य,
 तुच्छ, घृणा करने योग्य ।
 नगदंती—(सं. स्त्री.) विभीषण की स्त्री
 का नाम ।
 नगद—(हि. पुं.) देखें 'नकद' ।
 नगदी—(हि. स्त्री.) देखें 'नकदी' ।
 नगधर—(सं. पुं.) पर्वत को धारण करने-
 वाले श्रीकृष्ण ।
 नगनंदिनी—(सं. स्त्री.) हिमालय की
 कन्या, पार्वती ।
 नगन—(हि. वि.) नग्न, नंगा, जिसके
 शरीर पर वस्त्र न हो ।
 नग-नदी—(सं. स्त्री.) किसी पर्वत से
 निकली हुई नदी ।
 नगना—(हि. वि. स्त्री.) नगना, नंगी ।
 नगनिका—(हि. स्त्री.) संकीर्ण राग का
 एक भेद, क्रीड़ा नामक वृत्त ।
 नगनी—(हि. स्त्री.) वह कन्या जो रजस्वला
 न हुई हो, कन्या, बेटे, पुत्री ।
 नगपति—(सं. पुं.) हिमालय पर्वत, चन्द्रमा,
 ताड़ का पेड़, कैलाशपति, शिव, सुमेरु पर्वत ।
 नगभित्—(सं. पुं.) इन्द्र, पापाणभेदी लता ।
 नगभू—(सं. स्त्री.) पहाड़ी भूमि; (वि.)
 पहाड़ से उत्पन्न ।
 नगमा—(अ. पुं.) सुरीला या मधुर-कंठ
 या स्वर, राग, गाना ।
 नगमाल—(सं. पुं.) एक प्रकार का सुग-
 न्धित घान ।
 नगमूर्धा—(सं. पुं.) पहाड़ की चोटी ।
 नगर—(सं. पुं.) मनुष्यों के रहने की वह
 वस्ती जो गाँव और कस्बे से बड़ी हो
 और जिसमें अनेक जातियाँ रहती हों,
 शहर; —काक—(पुं.) नगर का कौवा,
 एक घृणासूचक शब्द; —कीर्तन—(पुं.)
 ईश्वर के नाम का भजन जिसको
 लोग नगर की सड़कों या गलियों में
 धूम-धूमकर गाते हैं; —घात—(पुं.)
 हाथी, नगर के निवासियों की हत्या;
 —जन—(पुं.) पुरवासी; —द्वार—(पुं.)
 नगर का द्वार; —नायिका, —रानी—
 (हि. स्त्री.) बेरया, रंडी; —पति—(पुं.)
 नगर का अध्यक्ष; —पाल—(पुं.) नगर-

रक्षक, नगरपति; —प्रांत—(पुं.) नगर
 के समीप का स्थान; —मर्दी—(पुं.)
 मस्त हाथी; —मार्ग—(पुं.) राजमार्ग,
 चौड़ी सड़क; —मुस्ता—(स्त्री.) नागर-
 मोथा; —रक्षा—(स्त्री.) नगर का शासन,
 नगर की रक्षा; —वायस—(पुं.) नगर-
 काक, घृणासूचक शब्द; —वासी—(वि.)
 पुरवासी, नागरिक; —विवाद—(पुं.)
 शहर के झगड़े; —स्थ—(वि.) नगरवासी;
 —हा—(हि. पुं.) नगर में रहनेवाला;
 —हार—(पुं.) भारतवर्ष का एक प्राचीन
 नगर जो जलालाबाद के पास बसा था ।
 नगराई—(हि. स्त्री.) नागरिकता, चतुराई ।
 नगराधिप—(सं. पुं.) नगर-पालक ।
 नगराधिपति, नगराध्यक्ष—(सं. पुं.) नगर
 का अध्यक्ष ।
 नगराह्वय—(सं. पुं.) शृंठि, सोंठ ।
 नगरी—(सं. स्त्री.) छोटा नगर; —काक—
 (पुं.) बक, बकुला ।
 नगरीय—(सं. वि.) नागरिक, नगर. का
 रहनेवाला ।
 नगरीत्य—(सं. वि.) जो नगर में उत्पन्न
 हुआ हो ।
 नगरीवक—(सं. पुं.) काक, कौवा ।
 नगरौषधि—(सं. स्त्री.) कदली, केला ।
 नगवासी—(सं. वि.) पर्वत पर रहनेवाला ।
 नगवाहन—(सं. पुं.) शिवजी का एक नाम ।
 नगस्वरूपिणी—(सं. स्त्री.) एक वर्णवृत्त
 का नाम ।
 नगाटन—(सं. पुं.) वानर, वन्दर; (वि.)
 पहाड़ पर घूमनेवाला ।
 नगाड़ा, नगरा—(हि. पुं.) डुगडुगी जैसा
 पर उससे बहुत बड़ा बाजा ।
 नगाधिप—(सं. पुं.) हिमालय पर्वत ।
 नगानिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का
 वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चार-
 चार अक्षर होते हैं ।
 नगारि—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 नगावास—(सं. पुं.) वृक्ष पर रहने का
 स्थान, मयूर, मोर ।
 नगाश्रय—(सं. वि.) पहाड़ और वृक्ष पर
 रहनेवाला ।
 नगिचाना—(हि. क्रि. अ.) समीप आना ।
 नगी—(हि. स्त्री.) रत्न, मणि, नगीना,
 हिमालय की कन्या, पार्वती, पहाड़ी स्त्री ।
 नगीच—(हि. अव्य.) पास, नजदीक ।
 नगीना—(फा. पुं.) रत्न, मणि ।
 नगेंद्र, नगेश—(सं. पुं.) हिमालय पर्वत ।
 नगेसरि—(हि. पुं.) नागकेशर ।
 नगौकस्—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, शेर,

कीवा; (वि.) पर्वत और वृक्ष पर रहनेवाला ।
 नग्न—(सं. वि.) विवस्त्र, नंगा, जिसके शरीर पर वस्त्र न हो, विना आवरण का; (पुं.) दिगंबर जैन; —क—(पुं.) नग्न, नंगा; —क्षपणक—(पुं.) एक प्रकार के वीर्य संन्यासी; —ता—(स्त्री.) नंगापन; —योषित्—(स्त्री.) नंगी स्त्री; —त्रतधर—(पुं.) महादेव, शिव ।
 नगना—(सं. स्त्री.) नंगी स्त्री, वह स्त्री जिसके स्तन उभड़े न हों ।
 नगनाट—(सं. पुं.) वह जो सर्वदा नंगा रहता हो ।
 नगनाटक—(सं. पुं.) सदा नंगा घूमनेवाला साधु ।
 नग्निका—(सं. स्त्री.) वह कन्या जो नंगी होकर घूमती हो, वह कन्या जो रजस्वला न हुई हो ।
 नग्न—(हिं. पुं.) देखें 'नगर' ।
 नग्नोच—(हिं. पुं.) वरगद का पेड़ ।
 नगना—(हिं. क्रि.स.) लांघना, पार करना ।
 नग्नार—(सं. पुं.) कुष्ठ रोग, कोढ़ की बीमारी ।
 नगाना—(हिं. क्रि. स.) उल्लंघन कराना ।
 नगारीव—(सं. पुं.) कुष्ठ रोग ।
 नगध्व—(सं. पुं.) नहुष राजा ।
 नगना—(हिं. क्रि.अ.) नाचना, इधर-उधर घूमना; (वि.) नाचनेवाला ।
 नगनिया—(हिं. पुं.) नाचनेवाला ।
 नगनी—(हिं. स्त्री.) करघे की लकड़ी; (वि. स्त्री.) नाचनेवाली ।
 नगाना—(हिं. क्रि.स.) नाचने का काम दूसरे से कराना, किसी वस्तु को इधर-उधर घुमाना, इधर-उधर दौड़ाना; (मुहा.) —नगाना—व्यर्थ व्यग्र करना ।
 नगवैया—(हिं. पुं.) नाचने या नचानेवाला ।
 नगिकेता—(सं. पुं.) उद्दालक ऋषि के पुत्र, अग्नि, आग ।
 नगिरात—(सं. अव्य.) शीघ्र, तुरत ।
 नगीला—(हिं. वि.) चंचल ।
 नचेत्—(सं. अव्य.) नहीं तो, ऐसा न हो कि ।
 नगीहा—(हिं. वि.) सर्वदा घूमनेवाला ।
 नग्न—(हिं. पुं.) देखें 'नक्षत्र' ।
 नग्नो—(हिं. वि.) प्रभावशाली, भाग्यवान् ।
 नगदीक—(फा. अव्य.) पास, निकट, समीप ।
 नगदीकी—(फा. वि.) पास या नगदीक का; (पुं.) निकट का संबंधी; (स्त्री.) समीपता, सामीप्य ।
 नजर—(अ. स्त्री.) दृष्टि, निगाह, आंख, कृपा, निरीक्षण, निगरानी, देख-भाल, टोना, ध्यान, भेंट, उपहार ।

नजरबंद—(अ. वि.) जो (बंदी) किसी स्थान में सख्त निगरानी में रखा गया हो, नजरबंदी की सजा से दंडित (बंदी) ।
 नजरबंदी—(अ. स्त्री.) नजरबंद रखने की क्रिया या भाव, जादू का चकमा ।
 नजरवाग—(अ. पुं.) महल के चारों ओर का वाग ।
 नजरना—(हिं. क्रि.स.) कुदृष्टि लगाना, देखना ।
 नजराना—(हिं. क्रि.अ.स.) बुरी दृष्टि का प्रभाव होना या लगाना; (पुं.) भेंट, उपहार, वह वस्तु जो भेंट के रूप में दी जाय ।
 नजरि—(हिं. स्त्री.) देखें 'नजर' ।
 नजला—(अ. पुं.) जुकाम, नाक से गिरनेवाला कफ ।
 नजाकत—(फा. स्त्री.) नाजुक होने का भाव, सुकुमारता ।
 नजामत—(अ. स्त्री.) नाजिम का पद, प्रबंध, इंतजाम ।
 नजारा—(अ. पुं.) दृश्य, दृष्टि, देखना ।
 नजिकाना—(हिं. क्रि.अ.) समीप पहुँचना, निकट आना ।
 नजिक—(हिं. अव्य.) समीप, पास ।
 नजोर—(अ. स्त्री.) उदाहरण, मिसाल, दृष्टांत ।
 नजूम—(अ. पुं.) ज्योतिष विद्या ।
 नजूमि—(अ. पुं.) ज्योतिषी ।
 नजूल—(अ. पुं.) सरकारी जमीन ।
 नट—(सं. पुं.) नर्तक, नाट्य करनेवाला, अशोक वृक्ष, एक वर्णसंकर जाति, सम्पूर्ण जाति का एक राग, एक नीच जाति जो गा-बजाकर तथा खेल-तमाशे दिखलाकर अपनी जीविका चलाती है, बड़ा नरकट, लोच वृक्ष; —पत्रिका—(स्त्री.) वैंगन, भंटा; —पर्ण—(पुं.) दालचीनी; —भूषण, —मंडन—(पुं.) हरिताल, हरताल; —मल—(पुं.) एक प्रकार का राग; —मल्लार—(पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक संकर राग; —मल्लारी—(हिं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम; —रंग—(पुं.) नट के समान अभिनय; —राज—(पुं.) शिव, महादेव; —चट्—(पुं.) युवक अभिनेता; —वर—(पुं.) नृत्य-कला में बहूत चतुर मनुष्य; (वि.) बहूत चतुर ।
 नटई—(हिं. स्त्री.) गला, गरदन, गले की घांटी ।
 नटखट—(हिं. वि.) उपद्रवी, चंचल, यूत, ऊधमी ।
 नटखटी—(हिं. स्त्री.) उाद्रव ।
 नटगति—(सं. स्त्री.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रति चरण में चौदह अक्षर होते हैं ।
 नटचर्चा—(सं. स्त्री.) अभिनय, नाटक ।

नटता—(सं. स्त्री.) नटत्व, नट का भाव, नट का काम ।
 नटन—(सं. पुं.) नृत्य, नाच ।
 नटना—(हिं. क्रि. अ., स.) नाट्य करना, अस्वीकार करना, कहकर बदल जाना, नृत्य करना, नाचना, नट करना; (पुं.) विना पैदी का मछली पकड़ने का बड़ा टोकरा, रस छानने की छलनी ।
 नटनारायण—(सं. पुं.) सम्पूर्ण जाति के एक राग का नाम ।
 नटनि—(हिं. स्त्री.) नृत्य, नाच, अस्वीकार ।
 नटनी—(हिं. स्त्री.) नट की स्त्री, नट जाति की स्त्री ।
 नटसंज्ञक—(सं. पुं.) नट, गोदन्ती हरताल ।
 नटसाल—(हिं. स्त्री.) काँट का टूटा हुआ भाग जो घँसा रह जाता है, छोटी फाँस, कसक, पीड़ा ।
 नटसार—(हिं. स्त्री.) नाट्यशाला ।
 नटांतिका—(सं. स्त्री.) लज्जा ।
 नटाई—(हिं. स्त्री.) ताना तानने का जुलाहों का एक उपकरण ।
 नटिन—(हिं. स्त्री.) नट की स्त्री, नट जाति की स्त्री ।
 नटी—(सं. स्त्री.) नट जाति की स्त्री, नाचनेवाली स्त्री, वेद्या, अभिनय करनेवाली स्त्री, अशोक वृक्ष, एक रागिनी का नाम ।
 नटुआ, नटुवा—(हिं. पुं.) देखें 'नट', 'नटई' ।
 नटेश, नटेश्वर—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 नटैया—(हिं. स्त्री.) गला ।
 नट्ट—(हिं. पुं.) देखें 'नट' ।
 नट्या—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 नठना—(हिं. क्रि. अ., स.) नट्य करना या होना ।
 नड—(सं. पुं.) नरकुल, नरकट ।
 नडक—(सं. स्त्री.) दोनों कंधों के बीच की हड्डी ।
 नडप्राय, नडनय—(सं. वि.) वह स्थान जहाँ नरकट बहुत होता है ।
 नडनीन—(सं. पुं.) शींगा नामक मछली ।
 नडह—(सं. वि.) सुन्दर ललित, चमक-दमकवाला ।
 नडनी—(सं. वि.) नडपूर्ण तटवाली नदी ।
 नडो—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की अग्निश्रींटा ।
 नडनी—(हिं. क्रि.स.) घाँघना, गिरोना, गुँथना ।
 नत—(सं. वि.) झुका हुआ, बक, टेढ़ा-मेढ़ा ।
 नतद्रम—(सं. पुं.) लताशाल नामक वृक्ष ।
 नतन—(सं. पुं.) सुभाव ।
 नतनासिका—(सं. स्त्री.) दिन के दोपहर से रात के दोपहर का समय ।
 नतनासिका—(सं. वि.) झिल्ली नाम छोटी छीं।

नतपाल—(सं. पुं.) प्रणतपाल, शरण में आनेवाले का पालन करनेवाला ।
 नतपुर—(सं.पुं.) आधुनिक नादियाद प्रांत ।
 नतम—(हिं. वि.) वाँका ।
 नतर, नतव—(हिं. अव्य.) अन्यथा, नहीं तो ।
 नतांगी—(सं. स्त्री.) नारी, काकड़ासींगी ।
 नतांश—(सं. पुं.) वह वृत्त जिसका केन्द्र भूकेन्द्र पर रहता है और जो विषुवत् रेखा पर लम्ब रहता है ।
 नताउल—(हिं. पुं.) एक पहाड़ी वृक्ष ।
 नति—(सं. स्त्री.) झुकाव, नमन, नमस्कार, प्रणाम, विनय, विनती, फलित ज्योतिष में एक प्रकार की गणना, नम्रता ।
 नतिनी—(हिं. स्त्री.) लड़की की लड़की ।
 नतु—(सं. अव्य.) अन्यथा, नहीं तो ।
 नतैत—(हिं. पुं.) सम्बन्धी, नातेदार, रिश्तेदार ।
 नतैनी—(हिं. स्त्री.) नातेदारी, संबंध ।
 नत्य—(हिं. स्त्री.) देखें 'नथ', नथिया ।
 नत्यी—(हिं. स्त्री.) कागज, कपड़े आदि के टुकड़ों की एक साथ सिली हुई गड्डी, इस प्रकार नथे हुए कागज-पत्र ।
 नथ—(हिं. स्त्री.) वाली की तरह का एक गहना जिसको स्त्रियाँ नाक में पहनती हैं ।
 नथना—(हिं. पुं.) नाक का अग्रभाग, नाक का छेद; (मुहा.)—फूलाना—शोध दिखलाना; (क्रि.अ.स.) नथी होना या करना, छिदना, छेदा जाना ।
 नथनी—(हिं. स्त्री.) नाक में पहिनने की छोटी नथ, नथ के आकार की कोई वस्तु, वेल की नाक में पहिनाने की रस्सी, तलवार की मूठ पर लगाने का छल्ला, वुलाक ।
 नथिया, नथुनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'नथ' ।
 नद—(सं. पुं.) बड़ी नदी ।
 नदन—(सं. पुं.) शब्द करना, वजना, पशुओं का शब्द करना ।
 नदनदीपति—(सं. पुं.) समुद्र, सागर ।
 नदना—(हिं. क्रि. अ.) रँभाना ।
 नदनिमन्—(सं. वि.) शब्द करनेवाला ।
 नदनु—(सं. पुं.) सिंह, शेर, मेघ, बादल ।
 नदम—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की कपास ।
 नदर—(सं. वि.) भयशून्य, निडर ।
 नदराज—(सं. पुं.) समुद्र, सागर ।
 नदान—(हिं. वि.) अनभिज्ञ, नादान ।
 नदारत (द)—(हिं. वि.) लुप्त, खाली ।
 नदाल—(सं. वि.) सौभाग्यशाली, भाग्यवान् ।
 नदि—(सं. पुं.) स्तुति, प्रशंसा ।
 नदिया—(हिं. स्त्री.) देखें 'नदी' ।
 नदी—(सं. स्त्री.) किसी पर्वत, शील आदि

से निकलकर बहनेवाला जल का बड़ा प्राकृतिक प्रवाह जो वर्षभर बहता रहता है, निम्नगा, तरङ्गिणी, किसी तरल वस्तु का बड़ा प्रवाह, चौदह अक्षरों के एक छन्द का नाम; (मुहा.)—नाव संयोग—अकस्मात् होनेवाला संयोग; —कदंब—(पुं.) गोरखमुण्डी; —कांत—(पुं.) समुद्र, सागर, जामुन का वृक्ष, जलवेत, काकजघा नामक लता; —कांता—(स्त्री.) जामुन का वृक्ष; —कूल—(पुं.) तीर, तट, किनारा; —कूलस्थ—(वि.) तटस्थ, किनारे का; —गर्भ—(पुं.) नदी के दोनों किनारों के बीच का स्थान; —गलर—(हिं. पुं.) लिसोड़े का वृक्ष; —ज—(वि.) नदी से उत्पन्न; (पुं.) एक प्रकार का घान, अर्जुन वृक्ष, खजूर का पेड़; —जल—(पुं.) नदी का पानी; —जा—(स्त्री.) अरणी वृक्ष, सीप; —जामुन—(हिं. पुं.) छोटा जामुन; —दोह—(पुं.) नदी पार करने का कर; —घर—(पुं.) शिव, महादेव; —पंक—(पुं.) नदी के किनारे का कीचड़युक्त स्थान; —पति—(पुं.) समुद्र, सागर, वरुण; —पुर—(पुं.) वह नदी जो बाढ़ के जल से किनारे पर के गाँवों को डूबा देती है; —भव—(वि.) जो नदी में उत्पन्न हो; (पुं.) संधा नमक, छोटा शंख; —मातृक—(वि.) वह देश या स्थान जहाँ पर खेती-बारी का काम केवल नदी के जल से होता है; —मुख—(पुं.) वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में गिरती है, नदी का मुहाना; —वंक—(पुं.) नदी का टेढ़ापन ।
 नदीया—(सं. स्त्री.) अरणी का वृक्ष ।
 नदीश—(सं. पुं.) समुद्र, सागर ।
 नदीसर्ज—(सं. पुं.) अर्जुन वृक्ष ।
 नदेया, नदेयो—(सं. स्त्री.) छोटा जामुन ।
 नदीला—(हिं. पुं.) मिट्टी की छोटी नाँद ।
 नदना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'नदना' ।
 नद्व—(सं. वि.) बढ़, बढ़ा हुआ ।
 नद्वि—(सं. स्त्री.) बन्धन, रस्सी ।
 नद्वी—(सं. स्त्री.) चमड़े की डोरी, ताँत ।
 नद्यावर्तक—(सं. पुं.) फलित ज्योतिष के अनुसार यात्रा के लिए एक शुभ योग ।
 नद्युत्सृष्ट—(सं. वि.) वह भूमि जो नदी के हट जाने से निकल आई हो ।
 नधना—(हिं. क्रि.अ.स.) रस्सी या तसमें से वेल, घोड़े आदि को उस वस्तु के साथ बाँधना जिसको उन्हें खींचकर ले जाना हो, जुतना, किसी कार्य का अनुष्ठान होना ।
 नधाव—(हिं. पुं.) पौदर का वह गड्ढा जिसमें से पानी को सिंचाई के लिए

नाली से खेत में ले जाते हैं ।
 नधी—(सं. स्त्री.) चमड़े की डोरी, ताँत ।
 ननकारना—(हिं. क्रि.अ.) अस्वीकार करना ।
 ननद, ननदी—(हिं. स्त्री.) पति की वहिन ।
 ननदोई—(हिं. स्त्री.) पति का वहनोई, ननद का पति, नंदोई ।
 ननसार—(हिं. स्त्री.) नाना का घर, ननिहाल ।
 नना—(सं. स्त्री.) माता, दुहिता, कन्या ।
 ननिआउर—(हिं. पुं.) देखें 'ननिहाल' ।
 ननिया ससुर—(हिं. पुं.) पति या स्त्री का नाना ।
 ननिया सास—(हिं. स्त्री.) स्त्री या पति की नानी ।
 ननिहारी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की ईंट ।
 ननिहाल—(हिं. पुं.) नाना का घर, ननसार ।
 ननु—(सं. अव्य.) प्रश्न, अनुज्ञा, विनय, अधिकार, आक्षेप, प्रत्युक्ति, वाक्यारम्भ आदि में प्रयुक्त होता है ।
 ननोई—(हिं. पुं.) एक प्रकार का जंगली घान ।
 नन्योरा—(हिं. पुं.) ननिहाल, नाना का घर ।
 नन्हा—(हिं. वि.) छोटा ।
 नन्हाई—(हिं. स्त्री.) छोटाई, अप्रतिष्ठा ।
 नन्हिया—(हिं. पुं.) एक प्रकार का घान ।
 नन्हैया—(हिं. वि.) देखें 'नन्हा' ।
 ननराजित—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 नपाई—(हिं. स्त्री.) नापने का काम या शुल्क ।
 नपाक—(हिं. वि.) देखें 'नापाक', अशुद्ध ।
 नपुंसक—(सं. पुं.) क्लीब, हिजड़ा; (वि.) कायर, डरपोक; —ता—(स्त्री.) नपुंसक होने का भाव; —त्व—(पुं.) नपुंसकता ।
 नपुआ—(हिं. पुं.) नापने की वस्तु ।
 नपुत्री—(हिं. वि.) देखें 'निपुत्री' ।
 नप्ता—(सं. पुं.) लड़की या लड़के का लड़का, नाती या पोता ।
 नप्री—(सं. स्त्री.) पोती, नातिन ।
 नफर—(फा. पुं.) दास, सेवक, अनुचर ।
 नफरत—(अ. स्त्री.) घृणा, घिन ।
 नफरी—(फा. स्त्री.) मजदूर की दैनिक मजदूरी या काम ।
 नफा—(अ. पुं.) लाभ ।
 नफासत—(अ. स्त्री.) नफीस या उम्दा होने का भाव, उम्दापन, सुंदरता ।
 नफीरी—(हिं. स्त्री.) तुरही ।
 नफीस—(अ. वि.) बढ़िया, उम्दा, सुंदर ।
 नवी—(अ. पुं.) पैगंबर, ईश्वर का दूत ।
 नवेड़ना—(हिं. क्रि.स.) निपटाना, झगड़ा तय करना, समाप्त करना, अपने मतलब की वस्तु लेकर बाकी को छोड़ देना, चुनना ।
 नवेड़ा—(हिं. पुं.) न्याय, निपटारा ।
 नवेरना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'नवेना' ।
 नवेरा—(हिं. पुं.) देखें 'नवेड़ा' ।

नब्ज—(अ. स्त्री.) हाथ की नाड़ी जिसके स्पंदन को उँगलियों से जाँचकर रोग-निदान किया जाता है।

नब्जे—(हि. वि.) जो गिनती में अस्ती और दस के बराबर हो; (पुं.) यह संख्या, ९०।

नभ—(सं.पुं.) सावन या भादों का महीना, आकाश, शून्य स्थान, महादेश, शिव, गणित में शून्य, आश्रय, आधार, निकट, पास, अभ्रक, अवख, राजानल के एक पुत्र का नाम, जल, पानी, मेघ, बादल, वर्षा।

नभःकैतन, नभःपांथ—(सं. पुं.) सूर्य।

नभःप्राण—(सं. पुं.) पवन, हवा।

नभःसद—(सं. पुं.) देवता, पक्षी, चिड़िया।

नभःसरित्—(सं. स्त्री.) आकाश-गंगा, मन्दाकिनी।

नभःसुत—(सं. पुं.) पवन, हवा।

नभःस्थल—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

नभःस्थित—(सं.पुं.) एक नरक का नाम।

नभःस्पृश—(सं. वि.) आकाश छूनेवाला।

नभग—(सं. पुं.) वैवस्वत मनु के एक पुत्र का नाम, पक्षी, पवन, हवा, मेघ; (वि.) आकाश में विचरनेवाला, भाग्यहीन, अभागा।

नभगनाथ—(सं. पुं.) गरुड़।

नभगामी—(सं. पुं.) सूर्य तारा, देवता, चन्द्रमा, पक्षी।

नभगेश—(सं. पुं.) गरुड़।

नभचर—(हि. पुं.) देखें 'नभश्चर'।

नभधुज—(हि. पुं.) मेघ, बादल।

नभनीरप—(हि. पुं.) चातक, पपीहा।

नभन्य—(सं. वि.) आकाश में उत्पन्न होनेवाला।

नभश्चक्षु(स्)—(सं. पुं.) सूर्य।

नभश्चमस—(सं. पुं.) चन्द्रमा, इंद्रजाल।

नभश्चर—(सं. वि.) गगनचारी, आकाश में उड़नेवाला; (पुं.) पक्षी, हवा, देवता, गन्धर्व आदि, मेघ, बादल।

नभसंगम—(सं. पुं.) खग, पक्षी, चिड़िया।

नभस्थल—(हि. पुं.) आकाश।

नभस्थित—(हि. वि.) नभःस्थित।

नभस्य—(सं. पुं.) भाद्रपद का महीना।

नभस्वत्—(सं. पुं.) वायु, हवा।

नभाक—(सं.पुं.)अन्वकार, अँवेरा, राहु।

नभि—(सं. स्त्री.) चक्र, पहिया।

नभीत—(सं. वि.) मयरहित, निडर।

नभोवृष—(सं. पुं.) चातक पक्षी, पपीहा।

नभोग—(सं.वि.) नभश्चर, पक्षी, देवता, ग्रह।

नभोगज—(सं. पुं.) मेघ, बादल।

नभोनि—(सं. स्त्री.) आकाश में चलना।

नभोज—(सं.वि.) जो आकाश में उत्पन्न हो।

नभोद्गुह, नभोद्वीप, नभोधूम, नभोध्वज—(सं.पुं.) मेघ, बादल।

नभोनदी—(सं. स्त्री.) आकाशगंगा, मन्दाकिनी।

नभोमणि—(सं. पुं.) सूर्य।

नभोमंडल—(सं. पुं.) गगनमण्डल।

नभोमंडलदीप—(सं. पुं.) चन्द्रमा।

नभोयोनि—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

नभोरजस—(सं. पुं.) अन्वकार, अँवेरा।

नभोरूप—(सं. पुं.) नीला रंग।

नभोरेंणु—(सं. पुं.) नीवार, कुहरा।

नभोलय—(सं. पुं.) धूम, धुआँ।

नभोवट—(सं. पुं.) आकाशमण्डल।

नभ्य—(सं.पुं.)पहिये के बीच का भाग, धुरी।

नभ्राज—(सं. पुं.) मेघ, बादल।

नभः—(सं. अद्य.) प्रणाम का सूचक शब्द।

नभ—(फा. वि.) तर, गीला, आर्द्र।

नभक—(फा. पुं.) खाया जानेवाला एक प्रसिद्ध क्षार पदार्थ, लवण, लावण्य, सुंदरता, सलोनापन; -खार—(पुं.) नभक खानेवाला; -दान—(पुं.) नभक रखने का पात्र या आधान; -हराम—(वि.) स्वामी या पालक के साथ कृतघ्न व्यवहार करनेवाला; -हरामी—(स्त्री.) कृतघ्नता; -हलाल—(वि.) स्वामी का कृतज्ञ; -हलाली—(स्त्री.) नभकहलाल होने का भाव; (मुहा.)-अदा करना-स्वामी के प्रति वफादार या कृतज्ञ रहना; -मिर्चं मिलाना-कुछ असत्य जोड़कर कहना; किसी का नभक खाना-(किसी की) कृपा या संरक्षण या नियोजन में निर्वाह होना; रुटे पर नभक छिड़कना-दुखिया को और दुःख देना।

नभकीन—(फा. वि.) जिसमें नभक पड़ा हो, जिसका स्वाद नभक-सा हो, सलोना, लावण्य-युक्त, सुन्दर।

नभत—(सं. पुं.) प्रभु, स्वामी, धुआँ, नट; (वि.) जो नत हो, नम्र।

नभन—(सं.पुं.) प्रणाम, नमस्कार, झुकाव।

नभना—(हि. क्रि. अ.) झुकना, नमस्कार करना।

नभनीय—(सं. वि.) झुकने या झुकाने योग्य, नमस्कार करने योग्य, माननीय, पूजनीय, आदरणीय।

नभयिष्णु—(सं. वि.) आदर करने योग्य, जो झुक सके।

नभसान—(सं. वि.) नमस्कार करने योग्य।

नभसित—(सं. दि.) पूजित, नमस्कार

किया हुआ।

नमस्कार—(सं. पुं.) प्रणाम, झुककर अभिवादन करने की क्रिया।

नमस्कारी—(सं.स्त्री.) घास, लजालू।

नमस्कार्य—(सं. वि.) पूज्य, नमस्कार करने योग्य।

नमस्क्रिया—(सं. स्त्री.) नमस्कार, पूजा।

नमस्ते—(सं.) एक वाक्य जिसका अर्थ है-तुमको नमस्कार।

नमस्य—(सं. वि.) पूज्य, आदरणीय।

नमस्या—(सं. स्त्री.) पूजा।

नमित—(हि. वि.) झुका हुआ।

नमुचि—(सं. पुं.) कन्दर्प, एक दानव का नाम, एक ऋषि का नाम, पुष्पवनु, फूल का घनुप; -सूदन—(पुं.) इंद्र।

नमूना—(फा. पुं.) अन्न, घी आदि पदार्थों की राशि में से निकाला हुआ थोड़ा-सा अंश जिससे उसके उद्घापन, किस्म आदि की परख की जाती है, वानगी, ठाट, ढाँचा, खाका।

नमोवाक्—(सं. पुं.) नमस्कार का वाक्य।

नम्य—(सं. वि.) नमनीय, झुकने योग्य।

नम्र—(सं. वि.) झुका हुआ, विनीत, जिसमें विनय हो; (पुं.) बल का पेड़; -क—(पुं.) बेंत का पीवा; -ता—(स्त्री.) विनय; -त्व—(पुं.) नम्रता; -प्रकृति—(वि.) विनीत स्वभाव का; -मुख—(वि.) जिसका मुख झुका हो; -मूर्ति—(वि.) विनीत, जिसमें नम्रता हो; -स्वभाव—(वि.) देखें 'नम्र-प्रकृति'।

नय—(सं.पुं.) नीति, न्याय, नम्रता, विष्णु।

नयक—(सं. वि.) नीति या न्याय में कुशल, नयकारी—(हि.पुं.) नाचनेवालों का प्रमुत्।

नाचनेवाला मनुष्य, नचनिया, नीतिकार।

नयन—(सं.पुं.) चक्षु, नेत्र, आँख, प्राण, ले जाना; -गोचर—(वि.) समक्ष दिखाई पड़नेवाला, जो आँखों के सामने हो; -पट—(पुं.) आँख की पलक; -पथ—(पुं.) जितनी दूरी तक दृष्टि जा सके, आँख के सामने का स्थान; -पुट—(पुं.) आँख की पलक; -प्रसाद—(पुं.) निर्मली का पेट; -प्लव—(पुं.) आँसू से भरी हुई धाँस; -चारि, -सलिल—(पुं.) नेत्रजल, आँसू।

नयनाजन—(सं. पुं.) काजल, मुरमा।

नयना—(हि.क्रि.अ.) नम्र होना, लटपाना, झुकना; (पुं.) नयन, नेत्र, आँसू।

नयनागर—(सं.वि.) नीतिकुशल, नीतिस।

नयनापांन—(सं. पुं.) आँसू की कौर।

नयनाभिराम—(सं. वि.) आँसू की प्रिय लगनेवाला; (पुं.) चन्द्रमा।

नयनी—(सं. स्त्री.) आँख की पुतली; (हि. वि.) आँखवाली, जिसको आँख हो।
 नयन—(हि. पुं.) नवनीत, मन्त्रन, एक प्रकार की मलमल जिस पर सफेद वृटियाँ बनी होती हैं।
 नयनोत्सव—(सं. पुं.) प्रदीप, दीया।
 नयनोपांत—(सं. पुं.) आँख का किनारा या कोर।
 नयनोपध—(सं. पुं.) पीला कसीस।
 नयपीठी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का जुए का खेल।
 नयलोचन—(सं. पुं.) नीतिरूप चक्षु; (वि.) जिसकी आँखें न्याय की ओर रहती हैं।
 नयर—(हि. पुं.) देखें 'नगर'।
 नयवर्त्म—(सं. पुं.) नीति मार्ग, न्याय का मार्ग।
 नयविशाख—(सं. पुं.) नीतिशास्त्रज्ञ, नीति-कुशल।
 नय-शास्त्र—(सं. पुं.) नीतिशास्त्र।
 नयशील—(सं. वि.) नीतिकुशल, विनीत।
 नयसार—(सं. पुं.) नीतिपुत्र।
 नया—(हि. वि.) नूतन, नवीन, हाल का, जो पहिले किसी काम में न लाया गया हो; (मुहा.)—पुराना करना—पुराना हिसाब तय करके उसे नये सिरे से चालू करना;
 -पन—(पुं.) नया होने का भाव, नवीनता।
 नर—(सं. पुं.) परमात्मा, विष्णु, शिव, महादेव, पुरुष, एक प्रकार के देवता, नरदेव के अवतार अर्जुन, रोहिश नामक घास, शंकु, लम्ब, नील का पौधा, दोहे का एक भेद, छप्पय का एक भेद, वह खूँटी जो समय जानने के लिये खड़े बल गाड़ी जाती है, एक देवयोनि; (वि.) जो स्त्री न हो, पुरुष जाति का।
 नरकान्त—(हि. पुं.) राजा, नृप।
 नरई—(हि. स्त्री.) गेहूँ के पौधे का डंठल, जल में होनेवाली एक प्रकार की घास।
 नरक—(सं. पुं.) हिन्दू धर्मशास्त्र तथा पुराणों के अनुसार वह स्थान जहाँ मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा को अपने किये हुये पापों का फल भोगना पड़ता है;—कुंड—(पुं.) पापियों के कष्ट भोगने का एक स्थान;—नामी—(वि.) नरक में जानेवाला;—चतुर्दशी—(स्त्री.) कार्तिक वदी चौदस जिस दिन संपूर्ण गृह का कड़ाकरकट घर से बाहर फेंका जाता है;—जित्—(पुं.) नरकासुर को जीतनेवाले श्रीकृष्ण;—पाल—(पुं.) मृतक की खोपड़ी;—भूमि—(स्त्री.) वह स्थान जहाँ पापी आत्मियों को जाकर दुःख भोगना पड़ता है;—भूमिका—(स्त्री.) नरकलोक;—मुदत्त—(वि.) नरक से छुटकारा पाया हुआ;

—स्थ—(वि.) जो नरक-भूमि में स्थित हो।
 नरकचूर—(हि. पुं.) देखें 'कचूर'।
 नरकट—(हि. पुं.) बेंत की तरह का एक पौधा जिसके पीले डंठल अनेक काम में लाये जाते हैं।
 नरकल, नरकस—(हि. पुं.) देखें 'नरकट'।
 नरकांतक—(सं. पुं.) नरकजित्, श्रीकृष्ण।
 नरकामय—(सं. पुं.) नरक-रूपी एक प्रकार का अति कष्टदायक रोग, प्रेत।
 नरकासुर—(सं. पुं.) पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न एक असुर जिसका सिर सुदर्शन चक्र से कृष्ण ने काटकर उसके सभी बंदियों को मुक्त किया था।
 नरकी—(हि. वि.) देखें 'नारकी'।
 नरकीलक—(सं. वि.) गुरुधन, गुरु की हत्या करनेवाला।
 नरकुल—(हि. पुं.) देखें 'नरकट'।
 नरकेशरी—(सं. पुं.) नरसिंह, वह मनुष्य जो अन्य मनुष्यों से श्रेष्ठ हो।
 नरकेशरी—(हि. पुं.) देखें 'नरकेशरी'।
 नरकौकस्—(सं. पुं.) नरक में रहनेवाले।
 नरकौतुक—(सं. पुं.) मदारी का खेल।
 नरगण—(सं. पुं.) फलित-ज्योतिष में नक्षत्रों का एक गण।
 नरगिस—(फा. पुं.) हलके पीले रंग का प्रसिद्ध सुगंधित पुष्प।
 नरगिसी—(फा. वि.) नरगिस जैसा; (पुं.) एक प्रकार का कपड़ा।
 नरचा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पटुआ।
 नरता—(सं. स्त्री.) नरत्व, मनुष्यत्व।
 नरतात—(सं. पुं.) नृपति, राजा।
 नरत्व—(सं. पुं.) मनुष्यत्व।
 नरद—(हि. स्त्री.) चौसर की गोटी।
 नरदन—(हि. पुं.) नाद करना, गरजना।
 नरदमा (वाँ)—(हि. पुं.) परनाला।
 नरदारा—(हि. पुं.) नपुंसक, हिजड़ा, वह जो पुरुष होकर स्त्री का काम करे; (वि.) डरपोक, कायर।
 नरदेव—(सं. पुं.) नृपति, राजा, ब्राह्मण।
 नरद्विष्—(सं. पुं.) राक्षस, असुर।
 नरनाथ, नरनायक—(सं. पुं.) नरश्रेष्ठ, नृपति, राजा।
 नरनारायण—(सं. पुं.) नर और नारायण नाम के दो ऋषि जो भृगु ऋषि के शाप के कारण तथा पृथ्वी का भार हरने के लिये अर्जुन और कृष्ण के रूप में संसार में उत्पन्न हुए थे।
 नरनारी—(सं. स्त्री.) नर (अर्जुन) की स्त्री द्रौपदी, पुरुष-स्त्री।
 नरनाह—(हि. पुं.) नृप, राजा।

नरनाहर—(हि. पुं.) नृसिंह भगवान।
 नरनी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पौधा।
 नरप—(सं. पुं.) संसार का पालन करने-वाले विष्णु।
 नरपति—(सं. पुं.) नृपति, राजा।
 नरपद—(सं. पुं.) नगर, देश।
 नरपशु—(सं. पुं.) जिस मनुष्य का आचरण पशु के सदृश हो, नृसिंह।
 नरपाल—(सं. पुं.) मनुष्यों का रक्षक, राजा।
 नरपालि—(सं. पुं.) छोटा शंख।
 नरपिशाच—(सं. पुं.) पिशाच की तरह काम करनेवाला मनुष्य, अति दुष्ट।
 नरपुंगव—(सं. पुं.) मनुष्यों में श्रेष्ठ या प्रधान।
 नरपुर—(सं. पुं.) भूलोक, मनुष्य-लोक।
 नरप्रिय—(सं. वि.) जो मनुष्य को अच्छा लगे; (पुं.) कबूतर।
 नरवदा—(हि. स्त्री.) देखें 'नर्मदा'।
 नरवलि—(सं. पुं.) देवता की वह पूजा जिसमें नर की बलि की जाती थी, नरमेघ।
 नरभक्षी—(सं. पुं.) दैत्य, दानव, राक्षस।
 नरभू—(सं. स्त्री.) भारतवर्ष, मनुष्यों की उत्पत्ति।
 नरभूमि—(सं. स्त्री.) भारतवर्ष।
 नरम—(हि. वि.) कोमल, जो कठोर न हो, लचीला, मृदु, शीघ्र पचनेवाला, जिसमें पराक्रम या उग्रता का अभाव हो।
 नरमद—(हि. स्त्री.) वह भूमि जहाँ की मिट्टी कोमल हो।
 नरमदा—(हि. स्त्री.) देखें 'नर्मदा'।
 नरम लोहा—(हि. पुं.) वह लोहा जो आग में तपाकर तैयार किया जाता है।
 नरमा—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की कपास मन्वाँ, सेमर की रूई, कान के भीतर का माग, एक प्रकार का कोमल कपड़ा।
 नरमाई—(हि. स्त्री.) कोमलता।
 नरमाना—(हि. क्रि. अ., स.) कोमल करना, धीमा करना, शान्त करना, नरम होना।
 नरमानिका, नरमानिनी—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसकी दाढ़ी-मूँछ निकल आई हो।
 नरमाला—(सं. स्त्री.) नरमुण्ड की माला।
 नरमालिनी—(सं. स्त्री.) देखें 'नरमानिका'।
 नरमावड़ी—(हि. स्त्री.) वन-कपास, नरमाई, मृदुता, कोमलता।
 नरमेघ—(सं. पुं.) एक प्रकार का यज्ञ जिसमें प्राचीन काल में पुरुष का वध करके उसके मांस की आहुति दी जाती थी।
 नरम्मन्थ—(सं. पुं.) वह जो अपने को राजा कहकर अभिमान करता हो।
 नरयान—(सं. पुं.) मनुष्य द्वारा खींची जाने-

वाली सवारी या गाड़ी ।

नरराज—(सं.पुं.) नरश्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ ।

नररूप—(सं. वि.) मनुष्य के समान आकृति का ।

नरर्षभ—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

नररलोक—(सं. पुं.) पृथ्वीलोक, संसार ।

नररवल्लभ—(सं. पु.) कपोत, कबूतर ।

नररवा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।

नररवाह—(सं. पुं.) वह यान जिसको मनुष्य खींचकर ले जाते हैं ।

नररवाहन—(सं. पुं.) कुंवर, किल्लर ।

नररवृक्ष—(सं. पुं.) नील (वट) का पेड़ ।

नररव्याघ्र—(सं. पुं.) मनुष्यों में श्रेष्ठ, एक प्रकार का जल में रहनेवाला जन्तु ।

नररशक्र—(सं. पुं.) नरेन्द्र, राजा ।

नररशृंग—(सं. पु.) मिथ्या वस्तु या कथन ।

नररसख—(सं. पुं.) मानव-वन्धु, नारायण ।

नररससर्ग—(सं. पुं.) मनुष्यों का संसर्ग ।

नररसल—(हिं. पु.) देखें 'नरकट' ।

नररसादर, नररसार—(सं. पुं.) नौसादर ।

नररसिग—(हिं. पुं.) एक प्रकार का फल ।

नररसिगा—(हिं. पुं.) देखें 'नरसिघा' ।

नररसिघ—(हिं. पुं.) देखें 'नरसिह' ।

नररसिघा—(हिं. पुं.) मुख से फूंककर बजाया-जानेवाला तुरही के आकार का एक वाजा ।

नररसिह—(सं. पुं.) नरश्रेष्ठ, विष्णु ।

नररसिहपुराण—(सं. पुं.) एक उपपुराण का नाम ।

नररसेज—(हिं. पुं.) त्रिवारा, सेंहुड़ ।

नररसों—(हिं. अव्य., पुं.) परसों से पहिले या बाद (का दिन) ।

नररस्कंध—(सं. पुं.) मनुष्यों का समूह ।

नररहय—(सं. पुं.) वह मनुष्य जिसका मुख घोड़े के समान हो ।

नररहर—(हिं. स्त्री.) पैर की पिंडली के ऊपर की हड्डी ।

नररहरि—(सं. पुं.) भगवान् के दस अवतारों में से चौथा अवतार, नृसिंह ।

नररहरी—(सं. पुं.) एक मायिक छन्द का नाम ।

नररहीरा—(हिं. पुं.) आठ या छः पहलों का बड़ा हीरा ।

नरररांग—(सं. पुं.) नाभि, ढाँड़ी, एक प्रकार का फोड़ा ।

नरररातक—(सं. पुं.) रावण के एक पुत्र का नाम; (वि.) मनुष्य का संहार करनेवाला ।

नररा—(हिं. पुं.) नरकट की छोटी नली ।

नरराच—(हिं. पुं.) नाराच, सीर, बाण, शर, नागराज नामक छन्द ।

नरराचिका—(सं. स्त्री.) वितान वृत्त का एक भेद ।

नरराज—(सं.पुं.) एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सोलह अक्षर होते हैं ।

नरराज—(हिं. वि.) अप्रसन्न, नाराज ।

नरराजना—(हिं. क्रि. अ., स.) अप्रसन्न होना या करना ।

नरराट—(हिं. पुं.) नृपति, राजा ।

नरराधस—(सं. पुं.) नीच मनुष्य ।

नरराधिप—(सं. पुं.) राजा, सोनापाठा, अमलतास का वृक्ष ।

नररायण—(सं. पुं.) नारायण, विष्णु ।

नरराश—(सं. पुं.) नरभोजी, राक्षस ।

नरराशन—(सं. पुं.) राक्षस ।

नररासन—(सं. पुं.) मनुष्य के आकार का एक प्रकार का आसन ।

नररियर—(हिं. पुं.) देखें 'नारियल' ।

नररिया—(हिं. पुं.) अर्धवृत्ताकार मिट्टी का खपड़ा ।

नररियाना—(हिं. क्रि. अ.) चिल्लाना ।

नररी—(सं. स्त्री.) स्त्री, नागी, (फा. स्त्री.) चमड़ा ।

नररी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का वगला, सोनार की फूंकनी ।

नररई—(हिं. स्त्री.) छोटी नली या छुल्ली ।

नररखा (आ)—(हिं. पुं.) अन्न के पौधे की डंठी जो पोली होती है ।

नररद्र—(सं. पुं.) नरेश, नृप, राजा, विप-वैद्य; साँप, बिच्छू आदि के दंश की चिकित्सा करनेवाला, सोनापाठा, अमलतास, अगर का पेड़, एक प्रकार का घणवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में इक्कीस मात्राएँ होती हैं ।

नररवी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का वृक्ष जिसकी छाल से एक प्रकार का लाली रंग बनता है ।

नररली—(हिं. स्त्री.) नारियल की खोपड़ी ।

नररेश—(सं. पुं.) नरेन्द्र, राजा, नृप ।

नररोत्तम—(सं. पुं.) ईश्वर, नरश्रेष्ठ ।

नररोह—(हिं. स्त्री.) पैर की पिंडली की हड्डी, कोल्हू की नली जिसमें से रस निकलता है ।

नररुं—(हिं. पु.) देखें 'नरकट' ।

नररुंठक—(हिं. पु.) देखें 'नरकट' ।

नररुंठक—(सं. पुं.) प्राणेश्वर, नामिका, नाका

नररगल—(हिं. पुं.) देना 'नरगिस' ।

नररगिनी—(हिं. वि.) देखें 'नरगिनी' ।

नररत, नररतज—(सं. पुं.) गट, नाचनेवाला, बन्दीजन, गाट, एक प्रकार की संकर जाति, नृप, राजा, महादेव, मीर, नरकट, महुआ ।

नररतकी—(सं. स्त्री.) नाचनेवाली स्त्री, बेश्या, हस्तिनी, हथिनी ।

नररतन—(सं. पुं.) नृत्य, नाच; (वि.) नाचनेवाला; -प्रिय—(पुं.) वह जिसको

नाचना प्रिय हो, मयूर, मीर; -शाला—(स्त्री.) वह स्थान जहाँ नाच होता है, नाचघर ।

नररतनागार—(सं. पुं.) नरतनशाला ।

नररतना—(हिं. क्रि. अ.) नाचना ।

नररतित—(सं. वि.) जो नचाया गया हो ।

नररदकी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की कपास ।

नररदक—(सं. पुं.) एक प्रकार का वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सत्रह अक्षर होते हैं ।

नररदन—(सं. पुं.) भीषण ध्वनि, गरज ।

नररदवान—(हिं. पुं.) लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी, निसेनी ।

नररदा—(हिं. पुं.) गन्दा पानी बहने की नाली ।

नररदा—(हिं. स्त्री.) देखें 'नर्मदा' ।

नररम—(सं. पुं.) वह देवता जिसके उद्देश्य से नरनेव यज्ञ किया जाता है, हँसी-दिल्लीगी, हँसी-मजाक ।

नररम—(फा. वि.) गुदगुदा, मुलायम, कोमल, सहज, आसान, सस्ता, धीमा, विनम्र; -गम—(वि.) सस्ता-महंगा; -दिल—(वि.) कोमल हृदयवाला ।

नररमद—(सं. पुं.) नूर्य, खपड़ा ।

नररमठ—(सं. पुं.) जार, यार, ठोठल, ठिठोलिया, चिचुक, ठुड्डी, स्तन का अंग, चूचूक, स्त्री-प्रसंग ।

नररमद—(सं. वि.) धानन्द देनेवाला; (पुं.) ठिठोलिया, ठोठल, नाँड़ ।

नररमदा—(सं. स्त्री.) मध्य प्रदेश की एक बड़ी नदी, एक गन्व-द्रव्य ।

नररमदेश्वर—(सं. पुं.) स्फटिक का गिब-लिंग जो नर्मदा नदी में मिलता है ।

नररमद्युति—(सं. स्त्री.) नाटक की प्रति-मुख-सन्धि का एक अंग ।

नररमरा—(न. स्त्री.) गुणा, मोह, पाप, बुद्धा स्त्री, नाथी, धाँकी ।

नररमवद—(सं. वि.) आनन्द-व्युत्पत्ति; (हिं. स्त्री.) आनन्द, हँसी ।

नररमसखिब—(सं. पुं.) विष्णुका सत्रह मनुष्य की राजा को हँसाने के दिने रसा जाता है ।

नररममुहद—(सं. पुं.) देना 'नर्मसखिब' ।

नररमस्कोद—(सं. पुं.) नायारय ठिठोली ।

नररर—(सं. वि.) नररतान, नररती, सीर ।

नररर—(हिं. स्त्री.) ऊपर में जमनेवाली एक प्रकार की घास ।

नररर—(सं. स्त्री.) गार्गी, उन्वारीरा, प्राय ।

नल-(सं. पुं.) पद्म, कमल, नरकट, निपथ देश के राजा वीरसेन के पुत्र जिनका विवाह भीम राजा की कन्या दमयन्ती से हुआ था, (वह अश्वविद्या में बड़े निपुण थे), विश्वकर्मा का पुत्र, राम का एक दानर सैनिक, एक दानव का नाम, यदु के पुत्र का नाम; (हिं. पुं.) कोई लंबी पोली वस्तु, घातु की बनी हुई पोली वस्तु, परनाली, शरीर में की मूत्र निकलने की नाली।

नलक-(सं. पुं.) नली के आकार की हड्डी।

नलका-(हिं. स्त्री.) नली, नाल।

नलकानन-(सं. पुं.) नरकट का जंगल।

नलकिनी, नलकौल-(सं. स्त्री.) जंघा, जांघ, घुटना।

नलकूबेर-(सं. पुं.) कुबेर के एक पुत्र का नाम, (इसके भाई का नाम मणिग्रीव था। नारद के शाप से ये दोनों भाई अर्जुन वृक्ष हो गये थे और श्रीकृष्ण के स्पर्श से शाप-मुक्त हुए थे।)

नरकौल-(सं. पुं.) एक प्रकार का वैल।

नलदंबु-(सं. पुं.) नीम का पेड़।

नलद-(सं. पुं.) फूल का रस, मकरन्द, उशीर, खस, जटामासी।

नलदा-(सं. स्त्री.) जटामासी, बालछड़।

नलनी-(हिं. स्त्री.) देखें 'नलिनी'।

नलनीरुह-(हिं. पुं.) मृणाल, कमल का डंठल।

नलपट्टिका-(सं. स्त्री.) नरकट की बनी हुई चटाई।

नलमीन-(सं. पुं.) एक प्रकार की मछली।

नलवा-(हिं. पुं.) गाय-वैल को दवा पिलाने की बाँस की ढरकी।

नलसेतु-(सं. पुं.) रामेश्वर के पास समुद्र पर बँधा हुआ पुल जिसको श्रीराम-चन्द्र ने नल-नील आदि से बनवाया था।

नला-(हिं. स्त्री.) पेट के भीतर की नली जिसमें से होकर मूत्र नीचे को उतरता है, नली के आकार की हाथ या पैर की लंबी हड्डी।

नलाई-(हिं. स्त्री.) बोये हुए खेत से घास-पात हटाने का काम, निराई।

नलाना-(हिं. क्रि. अ.) बोनो के खेत से निरर्थक घास आदि दूर करना, निराना।

नलिक-(सं. पुं.) नरकुल, नरकट।

नलिका-(सं. स्त्री.) नली नामक सुगंधित द्रव्य, प्राचीन काल का एक शस्त्र, जल बहने की नाली, नली के आकार की कोई वस्तु, चोंगा, तीर रखने का तरकज, पुदीना, करेमू का शाक; -यंत्र-(पुं.) नली के आकार का जलोदर का

पानी निकालने का एक प्राचीन यन्त्र।

नलिन-(सं. पुं.) पद्म, कमल, पानी, नील; (स्त्री.) सारस पक्षी, करौंदा, पद्म-केशर, नीम, वह जलभाग जहाँ कमल का समूह हो, नदी, गंगा की एक धारा का नाम, नारियल की बनी हुई मदिरा, नाक का बायाँ छिद्र, एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में पाँच सगण होते हैं, जिसको भ्रमरावली और मनहरण भी कहते हैं।

नलिनशय-(सं. पुं.) ब्रह्मा।

नलिनी-(सं. स्त्री.) कमलनी।

नलिनीखंड-(सं. पुं.) पद्मिनी-समूह।

नलिनीनंदन-(सं. पुं.) कुबेर के वगीचे का नाम।

नलिनीरुह-(सं. पुं.) कमल की नाल; (पुं.) ब्रह्मा, मनःशिल, मैनसिल।

नली-(सं. स्त्री.) नलिका, एक प्रकार का गन्धद्रव्य; (हिं. स्त्री.) छोटा पतला नल, चोंगा, नल के आकार की हड्डी, बन्दूक का लंबा छेद जिसमें से गोली छूटती है, घुटने के नीचे का भाग, पिडली।

नलुआ-(हिं. पुं.) बाँस की पोर, छोटी नली, पशुओं का एक रोग।

नलुका-(हिं. स्त्री.) जायफल का वृक्ष।

नलुत्तम-(सं. पुं.) बढ़िया नरकट।

नल्ल-(सं. पुं.) प्राचीन काल की एक प्रकार की नाप।

नल्ली-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की घास।

नल्वण-(सं. पुं.) प्राचीन काल का एक प्रकार का परिमाण जो प्रायः सोलह सेर का होता था।

नव-(सं. पुं.) स्तोत्र; (वि.) नवीन, नूतन, नया।

नव-(सं. वि.) दस से एक कम की संख्या का; (पुं.) आठ और एक की संख्या, ९।

नवक-(सं. पुं.) एक ही तरह के नौ पदार्थों का समूह; (वि.) जिसमें नौ संख्याएँ हों।

नवकारिका-(सं. वि.) नवविवाहिता स्त्री, वह स्त्री जिसका रजोवर्म हाल में हुआ हो।

नवकालिका-(सं. स्त्री.) युवती स्त्री।

नवकुमारी-(सं. स्त्री.) नवरात्र में पूजनीय नौ कुमारियाँ जिनमें कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, शाम्भवी, दुर्गा और सुमद्रा की कल्पना की जाती है।

नवचक्रांग-(सं. पुं.) शिव, महादेव।

नवच्छत्र-(सं. पुं.) नवीन विद्यार्थी।

नवग्रह-(सं. पुं.) रवि, सोम, मंगल, बुध,

बृहस्पति, शुक, शनि, राहु और केतु-ये नवग्रह कहलाते हैं।

नवछिद्र-(सं. पुं.) शरीर के नौ छिद्र या द्वार।

नवज-(सं. वि.) जो अभी उत्पन्न हुआ हो।

नवड़ा-(हिं. पुं.) मरसे का शाक।

नवतंतु-(सं. पुं.) नया सूत, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।

नवत-(सं. पुं.) हाथी की झूल, रेशमी वस्त्र, कम्बल।

नवतन-(हिं. वि.) नवीन, नया।

नवता-(हिं. पुं.) ढालाँ मूमि; (सं. स्त्री.) नवीनता, नयापन।

नवतिका-(सं. स्त्री.) चित्रकार की रंग भरने की कूंची।

नवदल-(सं. पुं.) नया पत्ता।

नवदीर्घति-(सं. पुं.) मंगल ग्रह।

नवदुर्गा-(सं. स्त्री.) पुराणनुसार नौ दुर्गाएँ जिनकी नवरात्र में क्रम से नौ दिन पूजा होती है, उनके नाम-शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डी, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं।

नवदोला-(सं. स्त्री.) नया हिंडोला।

नवद्वार-(सं. पुं.) शरीर के नौ द्वार या छिद्र-यथा दो आँख, दो कान, नाक के दो छिद्र, मुख, गुदा, लिंग या भग।

नवद्वीप-(सं. पुं.) बंगाल के नदिया नामक नगर का प्राचीन नाम।

नवधा-(सं. अव्य.) नौ प्रकारों से, नौ वार।

नवधा अंग-(सं. पुं.) शरीर के नौ अंग-यथा दो आँख, दो कान, दो हाथ, दो पैर और एक नाक।

नवधातु-(सं. पुं.) नौ प्रकार की धातुएँ, यथा, सोना, चाँदी, लोहा, सीसा, ताँबा, राँगा, इस्पात, काँसा और कान्तिलोहा।

नवधा भक्ति-(सं. स्त्री.) नौ प्रकार की भक्ति; यथा-श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन।

नवन-(हिं. पुं.) देखें 'नमन'।

नवना-(हिं. क्रि. अ.) झुकना, नम्र होना, विनीत भाव दिखलाना।

नवनि-(हिं. स्त्री.) झुकने का भाव, विनीत भाव, दीनता, नम्रता।

नवनिधि-(सं. स्त्री.) देखें 'निधि'।

नवनी, नवनीत-(सं. स्त्री., पुं.) मक्खन।

नवनीतक-(सं. पुं.) घृत, घी, गंधक।

नवनीतज-(सं. पुं.) घृत, घी।

नवनीतोद्भव-(सं. पुं.) दधि, दही, घृत, घी।

नवपद—(सं. पुं.) मात्रावृत्त का एक प्रकार का छन्द ।

नवपदी—(सं. स्त्री.) चौपाई नामक छन्द ।

नवपाठक—(सं. पुं.) नया शिक्षक ।

नवप्राशन—(सं. पुं.) नया अन्न या फल खाना ।

नवफलिका—(सं. स्त्री.) नवयीवना, वह स्त्री जो पहले-पहल रजस्वला हुई हो ।

नवम—(सं. वि.) जो गिनती में नौ के स्थान पर हो, नवाँ ।

नवमल्लिका—(सं. स्त्री.) चमेली या नवारी का फूल ।

नवमालिका, नवमालिनी—(सं. स्त्री.) एक वर्षावृत्त का नाम ।

नवमी—(सं. स्त्री.) चान्द्र मास के किसी पक्ष की नवीं तिथि ।

नवयज्ञ—(सं. पुं.) नये अन्न के निमित्त किया जानेवाला यज्ञ ।

नवयुवक, नवयुवा—(सं. पुं.) तरुण, नौजवान ।

नवयौवन—(सं. पुं.) तरुण अवस्था, जवानों ।

नवयौवना—(सं. स्त्री.) युवती, तरुण स्त्री ।

नवरंग—(हिं. वि.) रूपवान्, सुन्दर, नई शोभा से युक्त, नये ढंग का ।

नवरंगी—(हिं. वि.) प्रतिदिन नया आनन्द लेनेवाला, हँसमुख, रँगोला; (स्त्री.) देखें 'नारंगी' ।

नवरत्न—(सं. पुं.) नव प्रकार के रत्न जिनके नाम—मोती, पन्ना, मानिक, गोमेदक, हीरा, मूंगा, लहसुनिया, पद्मराग और नीलम है; राजा विक्रमादित्य की कल्पित सभा के नव पण्डित जिनके नाम—क्षपणक, धन्वतरि, अमरसिंह, शंकु, वेतालमट्ट, घटखर्पर, कालिदास, बराहमिहिर और वररुचि है, एक प्रकार का गले में पहिने का हार जिसमें नौ रत्न जड़े होते हैं ।

नवरस—(सं. पुं.) साहित्य-शास्त्र के प्रधान नौ रस, यथा—शृंगार, हास्य, करुण, रीद्र, वीर, भयानक, वीमत्स, अद्भुत और शान्त; (इन नौ रसों के स्थायी भाव क्रम से—रति, हास (हँसी), शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और शान्ति है ।)

नवरात्र—(सं. पुं.) आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक के नौ दिन जिनमें दुर्गा का घट-स्थापन, पूजन आदि होता है; चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यन्त भी उपर्युक्त प्रकार का पूजन होता है ।

नवल—(सं. पुं.) नद्य, नूतन, नवीन, नया, सुन्दर, शूद्र, उज्ज्वल ।

नवल अतंगा—(सं. स्त्री.) केशव के अनुसार मुग्धा नायिका के चार भेदों में से एक ।

नवलकिशोर—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण ।

नवलक्षण—(सं. पुं.) वेदान्त के अनुसार ब्रह्म को प्रमाणित करने के नौ लक्षण; यथा—विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इनका उपादान, गोचर; अपरोक्ष ज्ञान, चिकीर्षा और कृत्रिमत्व हैं ।

नवलता—(हिं. स्त्री.) नयापन, नई बेल ।

नवलवधू—(सं. स्त्री.) केशव के अनुसार मुग्धा नायिका के चार भेदों में से एक ।

नवला—(सं. स्त्री.) तरुणी स्त्री ।

नववधू—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका विवाह हाल में हुआ हो, दुल्हन ।

नववध्वागमन—(सं. पुं.) व्याही हुई स्त्री का पहले-पहल स्वामी के घर आना ।

नववरिका—(सं. स्त्री.) नवोढ़ा, नई व्याही हुई स्त्री ।

नववर्ष—(सं. पुं.) नया वर्ष, नई वर्षा ।

नववल्लभ—(सं. पुं.) एक प्रकार का सुगन्धित अगर ।

नववस्त्र—(सं. पुं.) नया वस्त्र ।

नवविष—(सं. पुं.) नौ प्रकार के विष जिनके नाम—वत्सनाभ, हारिद्रक, सक्तुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रक, शृंगक, कालकूट, हलाहल और ब्रह्मपुत्र हैं ।

नवशक्ति—(सं. स्त्री.) नौ शक्तियाँ जिनके नाम—प्रभा, माया, जया, सूक्ष्मा, विशुद्धा, नन्दिनी, सुप्रभा, विजया और सर्व-सिद्धिदा हैं ।

नवशस्थ—(सं. पुं.) नया अन्न ।

नवशिक्षित—(सं. वि.) जिसने कुछ काल पूर्व पढ़ा या सीखा है, नौसिखुआ, आवुनिक रीति से शिक्षा प्राप्त किया हुआ ।

नवशोभ—(सं. पुं.) युवक, तरुण, नई शोभावाला ।

नवसंगम—(सं. पुं.) पति से पत्नी की पहली भेंट ।

नवसप्त—(हिं. पुं.) देखें 'नवसप्त' ।

नवसप्त—(सं. पुं.) नौ और सात अर्थात् सोलह शृंगार ।

नवसर—(हिं. पुं.) नौ लड़ों का हार ।

नवससि—(हिं. पुं.) द्वितीया का चन्द्रमा, नया चाँद ।

नवसिला—(हिं. पुं.) नव शिक्षित, नौसिखुआ ।

नवसू, नवसूतिका—(सं. स्त्री.) नई प्रनूता गाय या स्त्री ।

नवाँ—(हिं. वि.) आठवें के बाद तथा दसवें के पहिले का, नौवाँ ।

नवांगा—(सं. स्त्री.) काकड़ासिगी ।

नवांश—(सं. पुं.) फलित ज्योतिष के अनुसार मेपादि चारह लग्नों का नवाँ भाग ।

नवाई—(हिं. स्त्री.) विनीत होने का भाव ।

नवागत—(सं. वि.) जो अभी आया हो, नया आया हुआ ।

नवाजना—(हिं. क्रि. घ.) दया दिखलाना ।

नवाड़ा—(हिं. पुं.) एक प्रकार की नाव ।

नवाना—(हिं. क्रि. स.) विनीत करना, झुकाना ।

नवान्न—(सं. पुं.) नया अन्न, एक श्राद्ध जो नया अन्न तैयार होने पर पितरों के उद्देश्य से किया जाता है ।

नवाव—(अ. पुं.) मुगल सम्राटों द्वारा नियुक्त किये गये प्रान्तीय प्रशासक या शासक, छोटे-मोटे राज्यों के मुसलमान शासक, एक उपाधि, वैभव और ऐश्वर्य के बीच रहनेवाला धनवान् व्यक्ति ।

नवावी—(हिं. स्त्री.) नवाव का पद, मर्यादा, काम, जीवन आदि, नवाव का शासन या सत्ता, वैभवपूर्ण अमीरी; (मुहा.)—करना—बहुत शान-शौकत के बीच रहना ।

नवाभ्युत्थान—(सं. पुं.) विद्या तथा कला-कौशल में होनेवाला नवीन विकास ।

नवार—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की बड़ी नाव ।

नवारी—(हिं. स्त्री.) देखें 'नवारी' ।

नवासा—(हिं. पुं.) नाती ।

नवासिका—(सं. स्त्री.) एक वर्षावृत्त ।

नवासी—(हिं. वि.) अस्ती और नौ की संख्या का; (पुं.) अस्ती और नौ की संख्या, ८९ ।

नवाह—(सं. पुं.) नौ दिन, किसी सप्ताह, पक्ष, मास या वर्ष का नया दिन, नौ दिनों में समाप्त होनेवाला यज्ञ अथवा रामायण आदि का पाठ ।

नवि—(हिं. स्त्री.) गाय को दूहते समय बछड़े का गला बाँधने की रस्ती जो गाय के पर से बाँध दी जाती है ।

नविका—(सं. स्त्री.) जिसमें नौ शब्द हों ।

नवीन—(सं. वि.) नूतन, नया, विचित्र, अपूर्व, विलक्षण, तरुण, नवयुवक ।

नवीनता—(हिं. स्त्री.) नयापन ।

नवीनभाव—(सं. पुं.) नया होने का भाव या क्रिया ।

नवेद—(हिं. पुं.) निमन्त्रण, न्वाता ।

नवेला—(हिं. वि.) नवीन, नया, तरुण ।

नवेली—(हि. वि. स्त्री.) तरुणी, युवती ।
 नवोदो—(सं. स्त्री.) नव विवाहिता स्त्री,
 नवयौवना वयू, साहित्य में वह मुग्धा
 नायिका जो लज्जा और भय के कारण
 नायक के पास न जाना चाहती हो ।
 नवोदक—(सं. पुं.) नूतन जल, नया पानी ।
 नवोद्भूत—(सं. वि.) तुरत निकाला हुआ;
 (पुं.) नवनीत, मकखन ।
 नव्य—(सं. वि.) नूतन, नवीन, नया,
 स्तुति करने योग्य ।
 नव्वाव—(अ. पुं.) देखें 'नवाव' ।
 नव्वावी—(अ. स्त्री.) देखें 'नवावी' ।
 नशन—(सं. पुं.) नाश, नष्ट होना ।
 नशना—(हि. क्रि. अ.) नाश होना ।
 नशा—(हि. पुं.) मादकता; भांग, अफीम,
 शराव आदि मादक द्रव्य, नशीली वस्तु,
 भद, गर्व; -खोर—(पुं.) किसी मादक वस्तु
 का सदा सेवन करनेवाला; नशे बाज—
 (वि.) नशाखोर; (मुहा.) -उतरना—
 मादकता दूर होना, गर्व या अहंकार
 मिटना; -किरकिरा होना—नशे के मजे
 में विघ्न पड़ना; -चढ़ना—नशा होना;
 -छाना—देखें 'नशा चढ़ना'; -दूटना—
 देखें 'नशा उतरना' ।
 नशाना—(हि. क्रि. स.) नष्ट करना ।
 नशावन—(हि. वि.) नष्ट करनेवाला ।
 नशीन—(फा. वि.) विराजमान, बैठनवाला ।
 नशीनी—(फा. स्त्री.) बैठने की क्रिया
 या भाव ।
 नशीला—(फा. वि.) नशा उत्पन्न करने-
 वाला, मादक, मदपूर्ण ।
 नशोड़ी—(हि. वि.) नशेबाज ।
 नशोहर—(हि. वि.) नाश करनेवाला ।
 नशतर—(फा. पुं.) छुरे जैसा तेज छोटा चाकू ।
 नश्वर—(सं. वि.) नष्ट होनेवाला, जो
 नष्ट हो जाय; -ता—(स्त्री.) नाश ।
 नश—(हि. पुं.) देखें 'नख' ।
 नपत—(हि. पुं.) देखें 'नक्षत्र' ।
 नष्ट—(सं. वि.) जो अदृश्य हो, जो दिखाई
 न पड़े, अघम, नीच, पामर, जिसका
 प्रभाव दूर हो चुका हो, जो भाग गया
 हो, निष्फल, व्यर्थ, जिसका नाश हो गया
 हो; (पुं.) नाश; -चंद्र—(पुं.) भादों
 महीने के दोनों पक्षों की (अब केवल
 शुक्ल पक्ष की) चतुर्थी को उगनेवाला
 चन्द्रमा जिसका दर्शन पुराण के अनु-
 सार निषिद्ध माना जाता है; -चित्त—
 (वि.) उन्मत्त, मतवाला; -चेतन—(वि.)
 अचेत; -चेष्ट—(वि.) जिसमें हिलने-
 ढोलने की शक्ति न रह गई हो;

-चेष्टता—(स्त्री.) मूर्च्छा, प्रलय; -जन्वा—
 (पुं.) वर्णसंकर, दोगला; -ता—(स्त्री.)
 नाश, दुराचारिता; -दृष्टि—(वि.)
 दृष्टिहीन, अंधा; -प्रभ—(वि.) कान्ति-
 रहित, तेजहीन; -बुद्धि—(वि.) बुद्धि-
 हीन, मूढ़, मूर्ख; -अष्ट—(वि.) जो
 विलकुल नष्ट हो गया है अथवा चौपट
 हो गया हो; -आर्गण—(पुं.) खोई
 हुई वस्तु खोजना; -रूप—(वि.)
 मृत, मरा हुआ; -रूपा—(स्त्री.) अनुष्टुप्
 छन्द का एक भेद; -सिध—(वि.) वह
 विपैला जन्तु जिसका विप नष्ट हो गया
 हो; -बीज—(पुं.) वह अन्न जो बोने पर
 न जमे; -वेदन—(पुं.) खोई हुई वस्तु
 की खोज; -शुक्र—(वि.) जिसका वीर्य
 नष्ट हो गया हो ।
 नष्टा—(सं. स्त्री.) व्यभिचारिणी स्त्री,
 कुलटा, बेरया ।
 नष्टाग्नि—(सं. पुं.) वह अग्निहोत्री
 जिसकी यज्ञाग्नि वृक्ष गई हो ।
 नष्टात्मा—(सं. वि.) दुष्ट, खल ।
 नष्टार्थ—(सं. वि.) निर्धन, दरिद्र ।
 नष्टाशंक—(सं. वि.) निर्भय, निडर ।
 नष्टासु—(सं. वि.) मृत, मरा हुआ ।
 नष्टेदुकला—(सं. स्त्री.) वह अमावस्या
 जिस दिन चन्द्रमा विलकुल दिखाई न पड़े ।
 नसक—(हि. वि.) निःशंक, निर्भय ।
 नस—(हि. स्त्री.) पुरुष की मूत्रेन्द्रिय, लिंग,
 शरीर के भीतर के तन्तुओं का वह
 लच्छा जो पेशियों के छोर पर रहता
 है और उन पेशियों अथवा हड्डी
 आदि को बाँध रहता है, रक्तवाहिनी
 नली, पत्ते के बीच का तन्तु; (मुहा.)
 -फड़क उठना—अति प्रफुल्ल होना,
 रोमांचित होना; -नस सँ—संपूर्ण शरीर
 में; -पर नस चढ़ना—शरीर के किसी
 स्थान की नस का विचलित होना ।
 नसकटा—(हि. पुं.) नपुंसक, हिजड़ा ।
 नसतरंग—(हि. पुं.) शहनाई के आकार
 का पीतलका वना हुआ एक प्रकार का
 वाजा जिसका मुँह गले की घंटी के पास
 रखकर गले से स्वर भरकर बजाया
 जाता है ।
 नसना—(हि. क्रि. अ.) नष्ट होना, भाग जाना ।
 नसफाइ—(हि. पुं.) हाथी का पैर फूलने का
 एक रोग ।
 नसवार—(हि. स्त्री.) तमाखू के सूखे पत्ते
 जिसका चूर्ण पीसकर सूँघा जाता है,
 नस्य, नसनी ।
 नसहा—(हि. वि.) जिसमें नस हों ।

नसा—(सं. स्त्री.) नासिका, नाक ।
 नसाना, नसावना—(हि. क्रि. अ.) नष्ट होना,
 विगड़ जाना ।
 नसी—(हि. स्त्री.) हल के फार का अगला
 भाग ।
 नसीनी—(हि. स्त्री.) निसेनी, सीढ़ी ।
 नसीपूजा—(हि. पुं.) बोझाई हो जाने पर
 हल की की जानेवाली पूजा ।
 नसीब—(अ. पुं.) किस्मत, भाग्य, दैव,
 अदृष्ट; (मुहा.) -होना—मिलना या
 प्राप्त होना; -बर—(वि.) भाग्यवान ।
 नसीवा—(हि. पुं.) नसीब ।
 नसीला—(हि. वि.) जिसमें नस हो, नशीला ।
 नसीहत—(अ. स्त्री.) उपदेश, शिक्षा, सीख ।
 नसीहा—(हि. पुं.) वह हल जो कोमल मिट्टी
 जोतने में व्यवहार किया जाता है ।
 नसूडिया—(हि. वि.) जिसके दर्शन मात्र
 से हानि या दोष हो ।
 नसूर—(हि. पुं.) देखें 'नासूर' ।
 नसेनी—(हि. स्त्री.) सीढ़ी ।
 नस्त—(सं. पुं.) नासिका, नास, एक प्रकार
 की सुँघनी ।
 नस्ता—(सं. स्त्री.) पशुओं के नाक का छेद ।
 नस्तित—(सं. वि.) नकेल पंहनाया हुआ ।
 नस्ती—(हि. स्त्री.) नाथ, नकेल ।
 नस्य—(सं. पुं.) नासिका-द्वार, नाक में
 सुँघने का चूर्ण, नास, सुँघनी; -दानी—
 (स्त्री.) सुँघनी रखने की डबिया ।
 नस्या—(सं. स्त्री.) नासिका, नाक, नाक
 का छेद ।
 नस्वर—(हि. वि.) देखें 'नश्वर' ।
 नह (हँ); - (हि. पुं.) नख ।
 नहलू—(हि. पुं.) विवाह की एक रीति
 जिसमें वर का क्षीर किया जाता है,
 नहँ काटे जाते हैं तथा उसके शरीर में
 उबटन आदि लगाया जाता है ।
 नहन—(हि. पुं.) पुरखट खींचने की मोटी
 रस्सी, नार ।
 नहना—(हि. क्रि. स.) काम में लगाना,
 जोतना, नाँघना ।
 नहर—(फा. स्त्री.) कृत्रिम जलमार्ग, कुल्या ।
 नहरनी—(हि. स्त्री.) नख काटन का यन्त्र,
 एक प्रकार का यन्त्र जिससे पोस्ते का
 ढोंह चीरते हैं ।
 नहरस—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की मछली ।
 नहरी—(हि. वि.) नहर से सींचा जानेवाला ।
 नहरआ—(हि. पुं.) कमर के नीचे के भाग
 में होनेवाला एक घाव जिसमें से
 डोरी की तरह का कीड़ा धीरे-धीरे
 निकलने लगता है ।

नहला—(हि.पुं.) ताश का वह पत्ता जिसमें नौ वृष्टियाँ रहती हैं, नकाशी बनाने का करनी की तरह का एक औजार।
 नहलाई—(हि. स्त्री.) नहलाने की क्रिया या भाव, नहलाने के बदले में दिया जाने-वाला धन।
 नहलाना, नहवाना—(हि. क्रि. स.) स्नान कराना।
 नहसुत—(हि. पुं.) नख का चिह्न, पलाश की तरह का एक वृक्ष।
 नहाँ—(हि. पुं.) पहिये के बीच का छिद्र, घर के आगे का आँगन।
 नहान—(हि. पुं.) नहाने की क्रिया, स्नान का पूर्व।
 नहाना—(हि.क्रि.अ.) स्नान करना, संपूर्ण शरीर को पानी से धोना, विलकुल मीग जाना; (मुहा.) दूधों नहाना पूतों फलना—घनघान्य की वृद्धि होना।
 नहानी—(हि.स्त्री.) स्त्री का रजस्वला होना।
 नहार—(हि. वि.) जो आहार न खाया हो।
 नहारी—(हि. स्त्री.) जलपान।
 नहि—(हि. अव्य.) कभी नहीं।
 नहिअन, नहियाँ—(हि. पुं.) स्त्रियों का पैर की अँगुलियों में पहिने का एक प्रकार का आभूषण।
 नहिरनी—(हि. स्त्री.) देखें 'नहरनी'।
 नहीँ—(हि. अव्य.) निषेध या अस्वीकृति-सूचक अव्यय; -तो—(अव्य.) अन्यथा इसके न होने पर; -सहीँ—(अव्य.) कुछ चिन्ता नहीं।
 नहुष—(सं. पुं.) विष्णु, एक नाग का नाम, चन्द्रवंश के एक राजा का नाम जो अम्बरीष के पुत्र और ययाति के पिता थे।
 नहर—(हि. स्त्री.) सिंचित में पाई जाने-वाली एक प्रकार की भेड़।
 नाँउ—(हि. पुं.) देखें 'नाम'।
 नांगा—(हि. वि.) देखें 'नांग'; (पुं.) एक प्रकार के साधु जो सर्वदा नंगे रहते हैं।
 नाँधना—(हि. क्रि. स.) उछलकर किसी वस्तु के पार जाना, लाँधना।
 नाँधना—(हि. क्रि. स.) नष्ट होना।
 नाँइ—(हि. स्त्री.) चौड़े मुँह का मिट्टी का बड़ा पात्र जिसमें पशुओं को खाने के लिये चारा दिया जाता है।
 नादिना—(हि.क्रि.अ.) शब्द करना, धान-न्दित होना, छोकना, दीपक का बुतने के पहिले भगवना।
 नाँह—(हि. पुं.) नाथ, स्वामी, मालिक।
 ना—(सं. अव्य.) अस्वीकृति या निषेध-सूचक शब्द, न, नहीं।

नाइक—(हि. पुं.) देखें 'नायक'।
 नाइन—(हि. स्त्री.) नाई जाति की स्त्री, नाउन।
 नाइव—(हि. वि., पुं.) देखें 'नायव'।
 नाई—(हि. अव्य.) समान दशा या स्थिति में; (वि.) तुल्य, सदृश, समान।
 नाई—(हि. पुं.) नापित, नाऊ।
 नाउ—(हि. पुं.) देखें 'नाम'।
 नाउ—(हि. पुं.) देखें 'नाव'।
 नाउत—(हि. पुं.) मूत-प्रेत झाड़नेवाला, थोझा।
 नाउन—(हि. स्त्री.) देखें 'नाइन'।
 ना-उस्मेद—(फा. वि.) निराश, हताश।
 ना-उस्मेदी—(फा. स्त्री.) निराशा।
 नाऊ—(हि. पुं.) नाई, नापित।
 नाक—(सं. पुं.) स्वर्ग, अन्तरिक्ष, आकाश, किसी अस्त्र का आघात या चोट; (हि. पुं.) नास, नासिका, नाक से निकलनेवाला मल, लकड़ी का डंडा जिस पर चढ़ाकर पात्र खरादा जाता है, चरखा घुमाने की मूठ, शोभा की वस्तु, मान, प्रतिष्ठा, मगर की जाति का एक जन्तु; -विसनी—(स्त्री.) गिड़गिड़ाकर विनती करना; (मुहा.) -कट जाना—मान में वृद्धि लगना; -कान काटना—कठोर दण्ड देना; -का बाल-घनिष्ठ मित्र; -चढ़ाना—कुद्द होना, रोप होना; -भों सिकोड़ना—अप्रसन्नता दिखलाना; -में दम करना—वहुत कष्ट देना; -रख लेना—मान-मथादा की रक्षा करना; -रगड़ना—गिड़गिड़ाते हुए विनती करना; -सिकोड़ना—धृणा दिखलाना; नाकोंआना—व्यग्र होना; नाकोंचने चव-वाना—बहुत हैरान करना; -चर—(पुं.) आकाश में भ्रमण करनेवाला; -नटी—(स्त्री.) स्वर्ग की अप्सरा; -नायक, -पाल—(पुं.) इन्द्र, देवता; -पूठ-लोक—(पुं.) स्वर्ग; -वनिता—(स्त्री.) स्वर्गीय अप्सरा; -वास—(पुं.) स्वर्ग में निवास; -वेधक—(पुं.) देवाधिप, इंद्र; -सद्—(पुं.) स्वर्गवासी, देवता।
 नाकड़ा—(हि. पुं.) नाक का एक रोग।
 नाकदर—(फा. वि.) जो कदर करना न जानता हो।
 नाका—(हि. पुं.) प्रवेश-द्वार; मुहल्ला, सड़क, गली आदि का आरंभ-स्थान, नगर अथवा गढ़ का पाटक, साने का धाना बाँधने का जुलाहे का एक उपकरण, सूई का छेद, मगर की जाति का एक

जन्तु, वह प्रधान स्थान जहाँ निरीक्षण करने के लिये अथवा कर लेने के लिये सिपाही नियुक्त रहते हैं; (मुहा.) -छेकना—आने-जाने का मार्ग रोकना।
 नाकापगा—(सं. स्त्री.) स्वर्ग की नदी, मन्दाकिनी।
 नाकावंदी—(हि. स्त्री.) आने-जाने के मार्ग का छेका जाना, प्रवेश-द्वार पर नियुक्त सिपाही या पहरेदार।
 नाकाम—(फा.वि.) जो काम के अयोग्य हो।
 नाकिस—(अ. वि.) बुरा, खराब।
 नाकी—(सं. पुं.) देवता।
 नाकु—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम, पर्वत, पहाड़, भीटा, टीला, दीमक का बनाया हुआ मिट्टी का टीला।
 नाकुल—(सं. पुं.) मार्ग, रास्ता, सेमर का मूसल; (वि.) नकुल नामक पाण्डव का बनाया हुआ।
 नाकुली—(सं. स्त्री.) सर्पगन्धा नामक जड़ी रफेद भटकट्या।
 नाकेदार—(हि. पुं.) फाटक पर रहने-वाला सिपाही, वह प्रधान कर्मचारी जो नाके पर कर आदि लेने के लिये नियुक्त रहता है; (वि.) जिसमें नाका या छेद हो।
 नाकेवंदी—(हि. स्त्री.) देखें 'नाकावंदी'।
 नाकेश, नाकेश्वर—(सं. पुं.) स्वर्ग के अविपति इन्द्र।
 नाकोंकस्—(सं. पुं.) स्वर्गवासी, देवता।
 नाक्षत्र—(सं. वि.) नक्षत्र-संबंधी।
 नाक्षत्र—(सं. वि.) नक्षत्र का, नक्षत्र-संबंधी; (पुं.) चांद्र मास; -दिन—(पुं.) नाक्षत्र मास का एक दिन; -नास—(पुं.) नाक्षत्रिक गति के अनु-सार या चंद्रमा के परिक्रमणानुसार ज्योतिषीय महाना।
 नाक्षत्रिक—(सं. वि.) नक्षत्र-संबंधी।
 नाखना—(हि. क्रि. स.) विगाड़ना, नास करना, उल्लंघन करना, गिराना।
 नाखशी—(फा. स्त्री.) अप्रसन्नता।
 नाखून—(फा. पुं.) उँगली के सिरे पर का कठिन और कड़ा आवरण।
 नाखून—(फा.पुं.) एक प्रकार का नेत्ररोग।
 नाग—(सं. पुं.) सीसा, रांगा, सर्प, हाथी, मेघ, नागकेशर, मोथा, नरीर की एक वायु का नाम, कश्यप की संतान, पूर्वी हिमालय के पास के एक देश का नाम, इस देश में रहनेवाली एक जाति, पुत्राग, आठ की संख्या, नूर मनुष्य, ज्योतिष में एक करण का नाम।

-कन्या-(स्त्री.)नाग जाति की अति सुन्दर कन्या; -कर्ण-(पुं.) पलास का वृक्ष, हाथी का कान; -किजलक-(पुं.) नागकेशर; -कुमारिका-(स्त्री.)गुरुच, मजीठ; -केशर-(पुं.)एक वृक्ष जिसके सूखे फल औषधों में प्रयुक्त होते हैं; -गति-(स्त्री.)ग्रहों की एक विशिष्ट गति का नाम; -गर्भ-(पुं.)-चंपा-(हि.पुं.)नागकेशर का फूल; -चूड़-(पुं.)शिव, महादेव; -जंबू-(स्त्री.)एक प्रकार का जामुन; -ज-(वि.)जो सर्प या हाथी से उत्पन्न हो; (पुं.)सिद्धर, रांगा; -जिह्वा-(स्त्री.)अनन्तमूल; -जिह्वाका-(स्त्री.)भनःशिल, मैनसिल; -जीवन-(पुं.)शोधित रांगा; -ज्ञाग-(हि.पुं.)अहिफेन, अफीम; -जूंवी-(स्त्री.)छोटा कड़ुआ कद्दू; -दंत, -दंतक-(पुं.)हाथीदांत, भीत में लगाने की खूंटी; -दंती-(स्त्री.)श्वेतपुष्पा नामक औषधि; -दमन-(पुं.)नागदौने का पौधा; -दमनी-(स्त्री.)नागदमन; -दला-(स्त्री.)एक प्रकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती है; -दा-(स्त्री.)हरीतकी,हरें; -दुमा-(हि.वि.)हाथी जिसकी पूंछ का छोर सर्प के फन के आकार का हो; -दौन, -दौना-(हि.पुं.)एक प्रकार का कैंटीला दौना जिसके पौधे लंब होते ह, (इसकी पत्तियों को कागज या कपड़ों के बीच में रखने से इनमें कीड़े नहीं लगते); -द्रुम-(पुं.)सेहड़, नागफनी; -धर-(पुं.)शिव, महादेव; -ध्वनि-(स्त्री.)एक संकर रागिनी का नाम; -नक्षत्र-(पुं.)अश्लेषा नक्षत्र; -नग-(हि.पुं.)गजमुक्ता; -नामा-(स्त्री.)सफेद या काली तुलसी; -नायक-(पुं.)नागों का अधिपति, अनन्त, वासुकि आदि; -नासा-(स्त्री.)हाथी की सूंड; -पंचमी-(स्त्री.)श्रावण शुक्ला पंचमीजिस दिन हिन्दू लोग नाग की पूजा करते हैं; -पति-(पुं.)नागों का अधिपति वासुकि,हाथियों का अधिपति ऐरावत; -पत्र-(पुं.)पान का पत्ता; -पत्री-(स्त्री.)लक्ष्मणा नामक जड़ी; -पद-(पुं.)विभिन्न प्रकार के रतिवन्धों में से एक, हाथी का पैर; -पर्णी-(स्त्री.)नागवल्ली, पान; -पाश-(पुं.)वरुण के एक अस्त्र का नाम जिससे वे शत्रु की जाँघ को बाँध लेते थे; -पुष्प-(पुं.)

नागकेशर, चम्पक, चंपा; -पुष्पक-(पुं.)कपित्थ, कैथ का पेड़, पीली जूही, कूष्माण्ड; -पुष्पा-(स्त्री.)नागदौना, मनःशिल, मैनसिल; -पुष्पी-(स्त्री.)जूही, मेढासींगी; -फनी-(हि.स्त्री.)सिंगे की तरह का एक वाजा,थूहर की जाति का एक पौधा जिसके मोटे दल काँटों से भरे होते हैं, कान में पहिनने का एक गहना; -फल-(पुं.)पटोल, परवल; -फाँस-(हि.पुं.)देखें 'नागपाश'; -फेन-(हि.पुं.)अहिफेन, अफीम; -बंधु-(पुं.)पीपल, गूलर का वृक्ष; -बधू-(स्त्री.)नागों की स्त्री; -बल-(पुं.)भीम का एक नाम, हाथी के समान बल; -बला-(स्त्री.)गंगेरन नामक औषधि; -बेल-(हि.स्त्री.)नागवल्ली,पान की लता; -भगिनी-(स्त्री.)वासुकि की वहिन जरत्कार; -भूषण-(पुं.)शिव, महादेव; -मंडलिक-(पुं.)नाग पकड़ने या रखनेवाला, सँपेरा; -मती-(स्त्री.)काली तुलसी; -मरोड़-(हि.पुं.)मल्लयुद्ध की एक युक्ति; -मल्ल-(पुं.)ऐरावत हाथी; -माता-(स्त्री.)नागों की माता कद्रू, मैनसिल; -मार-(पुं.)काला मँगरा; (वि.)सर्पमारक; -मुख-(पुं.)गणेश; -यष्टि-(स्त्री.)तालाव के बीचोबीच खड़ा किया हुआ खम्भा; -रंग-(पुं.)नारङ्गी का वृक्ष, एक प्रकार का झूल; रक्त-(पुं.)सर्प या हाथी का रक्त, सिन्दूर; -राज-(पुं.)शेषनाग, ऐरावत, पिंगल; नाराचछन्द का दूसरा नाम; -राहू-(पुं.)शुंठी, सोंठ; -लता-(स्त्री.)पान की लता; -लोक-(पुं.)पाताल; -वंश-(पुं.)शक जाति की एक शाखा; -वल्लरी, -वल्लिका-(स्त्री.)पान की लता; -वारिक-(पुं.)हस्तिपालक, महावत, गरुड़, मयूर, मोर; -वास-(पुं.)नाग-गण के रहने का स्थान; -वीट-(वि.)लम्पट, घूँत; -वृक्ष-(पुं.)नागकेशर का पेड़; -शुंडी-(स्त्री.)एक प्रकार की ककड़ी; -हनु-(पुं.)नख नामक सुगन्ध-द्रव्य।

नागर-(सं.वि.)नगर का, नगर संबंधी, चतुर, चालाक; (पुं.)नगरवासी, पौर, सम्य व्यक्ति, देवर, सोंठ, नारंगी, नागरी लिपि के अक्षर; -घन-(पुं.)नागरमोश; -मोथा-(हि.पुं.)एक प्रकार का तृण।

नागरिक-(सं.वि.)नगर में रहनेवाला, नगर-संबंधी,चतुर, सम्य; (पुं.)नगर-निवासी-ता-(स्त्री.)नागरिकअधिकार तथा कर्तव्य, नागरिक होने का भाव।

नागरी-(सं.स्त्री.)थूहर का पेड़, चतुर. स्त्री, नागर ब्राह्मण की स्त्री, भारतवर्ष की वह प्राचीन लिपि जिसमें संस्कृत तथा हिन्दी लिखी जाती है, देवनागरी, पत्थर की मोटाई की एक नाप, पत्थर की बहुत मोटी पटियां; (वि.स्त्री.)नगर में उत्पन्न होनेवाली।

नागरीट-(सं.वि.,पुं.)लम्पट, व्यभिचारी,दोगला।

नागस्क-(सं.पुं.)नागरंग, नारंगी।

नागरेयक-(सं.वि.)नगर-सम्बन्धी, नगर का।

नागर्य-(सं.पुं.)जुए की रस्सी जिससे बैल का कन्धा बाँधा जाता है।

नागांगना-(सं.स्त्री.)नाग की स्त्री।

नागांजना-(सं.स्त्री.)हस्तिनी, हथिनी नागांतक-(सं.पुं.)गरुड़, मोर, सिंह।

नागा-(हि.पुं.)शैव सम्प्रदाय के वे साधु जो वस्त्र धारण नहीं करते, और एकदम नंगे रहते हैं, आसाम के पूर्व नागा पर्वत और उसके आस-पास के देश में रहनेवाली एक जाति।

नागाख्य-(सं.पुं.)नागकेशर।

नागाधिप, नागाधिपति-(सं.पुं.)हाथी अथवा सर्प के अधिपति।

नागांनन-(सं.पुं.)गजानन; गणेश।

नागार्जुन-(सं.पुं.)विदर्भ नगर के रहनेवाले एक ब्राह्मण जो बौद्धधर्म के प्रचारक थे।

नागार्जुनी-(सं.स्त्री.)दुधिया घास।

नागालाब-(सं.पुं.)गोल कद्दू।

नागाशन-(सं.पुं.)गरुड़, मोर, सिंह, शेर।

नागिन-(हि.स्त्री.)माँदा सर्प, बैल, घोड़े आदि की पीठ पर की एक मौरी जो अशुभ मानी जाती है।

नागीय-(सं.पुं.)नागकेशर।

नागुला-(हि.पुं.)नकुल, नेवला।

नागेंद्र, नागेश्वर-(सं.पुं.)ऐरावत, शेषनाग, बड़ा हाथी, बड़ा सर्प।

नागेशर-(हि.पुं.)देखें 'नागकेशर'।

नागेशरी-(हि.वि.)नागकेशर के रंग का, पीला।

नागोद-(सं.पुं.)छाती पर पहिनने का लोहे का कवच।

नागोदर-(सं.पुं.)गर्भिणी के गर्भ का एक प्रकार का उपद्रव।

नागौर-(हि.पुं.)बीकानेर राज्य के पास

का एक स्थान जो गाय-बैलों के लिये बड़ा प्रसिद्ध है; (वि.) अच्छी जाति का (बैल या बछड़ा)।

नागौरी—(हिं. वि.) नागौर का (बैल, बछवा आदि); (स्त्री.) एक जाति की गाय।

नाच—(हिं. पुं.) नाचने की क्रिया या भाव, अंगों की वह गति जो चित्त के उमंग के कारण उत्पन्न हो, नाट्य, खेल, फ्रीडा, काम-बंघा; (मुहा.)

—काछना—नाचने के लिये वस्त्र आदि पहिनकर तैयार होना; —दिखाना—

उछल-कूद करना, हाव-भाव दिखलाना;

—नचाना—मनचाहा काम किसी से कराना; —कूद—(स्त्री.) प्रयत्न, आयोजन, नाच-तमाशा, वह उद्योग जिसमें

गुण, योग्यता, महत्त्व आदि का दिखावा किया जाता है, क्रोध में उछलना, डींग हांकना;

—घर—(पुं.) नृत्यशाला, वह स्थान जहाँ नाच-गाना आदि होता हो;

—महल—(पुं.) नृत्यशाला, नाचघर;

—रंग—(पुं.) आमोद-प्रमोद।

नाचना—(हिं. क्रि. अ.) चित्त के उमंग से उछलना-कूदना तथा अंगों की तरह-तरह

की मुद्राएँ बनाना, ताल-स्वर के अनुसार हाव-भाव दिखलाने हुए हिलना-डोलना,

कूदना, नाज, या विलास चेष्टा करना, चक्कर मारना, इधर-उधर घूमना,

दौड़ना-घूमना, स्थिर न रहना, क्रोध में उद्विग्न और चंचल होना, क्रोध में आकर

उछलना-कूदना, कांपना, थराना; (मुहा.) सिर पर नाचना—त्रास देना, कष्ट देना।

नाचिकेत—(सं. पुं.) अग्नि, उद्दालक ऋषि के एक पुत्र का नाम।

नाज—(हिं. पुं.) अन्न, अनाज, भोजन की सामग्री।

नाज—(फा. पुं.) नखरा, चोचला, हावभाव, विलास-चेष्टा, गर्व, धमंड।

नाजनी—(फा. स्त्री.) सुन्दरी स्त्री।

नाजायज—(अ. वि.) जो जायज या उचित न हो, अनुचित।

नाजिम—(अ. वि.) प्रबंधकर्ता; (पुं.) मुसलमानी शासन-काल में सूबे या प्रान्त का प्रबंधकर्ता।

नाजिर—(अ. पुं.) निरीक्षक, देखनाल करनेवाला, कचहरी का एक कर्मचारी।

नाजिल—(अ. वि.) नीचे उतरनेवाला, गुजरनेवाला।

नाजूक—(फा. वि.) कोमल, सुकुमार, महीन, बारीक; **मिजाज**—(वि.) जो

तनिक भी परेशानी या कष्ट न सह सके, तुनुक-मिजाज।

नाट—(सं. पुं.) नृत्य, नाच, एक राग का नाम जिसमें वीर रस का गान होता है,

कर्नाटक के समीप एक प्राचीन देश का नाम।

नाटक—(सं. पुं.) नर्तक, नट, नाट्य द्वारा अभिनय करनेवाला, रंगशाला में

नटों का हाव-भाव, वेश, वचन आदि द्वारा घटनाओं का प्रदर्शन, वह दृश्य

जिसमें स्वांग द्वारा अभिनय दिखलाये जाते हैं; गद्य या पद्य की रचना या ग्रन्थ

जिसमें पात्रों में कथोपकथन द्वारा कोई कहानी लिखी रहती है; दृश्य-काव्य,

रूपक; —शाला—(स्त्री.) वह स्थान या घर जहाँ नाटक का अभिनय होता है।

नाटकावतार—(सं. पुं.) किसी नाटक के बीच में दूसरे नाटक का अभिनय, अन्तर्नाटक।

नाटाकिया, नाटकी—(हिं. पुं.) नाटक करके अपनी जीविका चलानेवाला।

नाटकीय—(सं. वि.) नाटक-सम्बन्धी।

नाटना—(हिं. क्रि. स.) अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहना, अस्वीकार करना, इनकार करना।

नाटवसंत—(सं. पुं.) एक राग का नाम।

नाटा—(हिं. वि.) छोटे डील-डील का; (पुं.) छोटा बल।

नाटान्न—(सं. पुं.) तरम्बुज, तरबूज।

नाटिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का दृश्य काव्य जिसमें कल्पित वृत्तान्त का वर्णन रहता है, इसमें केवल चार अंक होते हैं तथा स्त्री-पात्र अविक होते हैं,

एक रागिनी का नाम।

नाटित—(सं. वि.) जिसका अभिनय हुआ हो।

नाटितक—(सं. पुं.) वह जो अभिनय करता हो।

नाटर—(सं. पुं.) नटी की सन्तान।

नाट्य—(सं. पुं.) नृत्य, गीत और वाद्य, नटों का काम, अभिनेता, अंग-चेष्टा द्वारा

प्रदर्शन, अभिनय, स्वांग; —कार—(पुं.) नाटक करनेवाला, नट; —प्रिय—(पुं.) शिव, महादेव; —मंदिर—(पुं.) देखें 'नाट्य-

शाला'; —रासक—(पुं.) एक प्रकार का दृश्य काव्य जिसमें केवल एक ही अंक होता है; —शाला—(स्त्री.) राजमवन

का नाच-घर, नाटकघर; —शास्त्र—(पुं.) भरतमुनि का रचित एक प्राचीन ग्रन्थ; नृत्य, गीत और अभिनय की विद्या।

नाट्यालंकार—(सं. पुं.) नाटक का भूषण-हेतु अथवा वह अलंकार जो नाटक की

सुन्दरता को बढ़ा देता है।

नाट्योचित—(सं. स्त्री.) नाटक विषयक वाक्य, वे विगिष्ट संबोधन के शब्द जो नाटक में विशिष्ट पात्रों के लिये

प्रयुक्त किये जाते हैं, यथा—ब्राह्मण के लिये महाराज, पति के लिये आर्यपुत्र,

राजा के लिये देव आदि।

नाठ—(हिं. पुं.) नाग, घ्वंस, हानि, अभाव।

नाठना—(हिं. क्रि. अ., स.) नष्ट करना या होना।

नाठा—(हिं. पुं.) वह जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो।

नाड़—(हिं. स्त्री.) ग्रीवा, गरदन।

नाड़ा—(हिं. पुं.) सूत की मोटी डोरी जिससे स्त्रियाँ घाघरा या घोती बाँधती हैं, नीवी,

देवताओं को चढ़ाने का लाल-पीला रँगा हुआ बिना बटा हुआ (कच्चा) सूत।

नाड़िधम—(सं. पुं.) स्वर्णकार, सोनार; (वि.) श्वास को जल्दी-जल्दी चलाने-

वाला, भयदायी, नली को फूँकनेवाला, भयंकर, नाड़ियों को हिलानेवाला, दहलानेवाला।

नाड़ि—(सं. स्त्री.) देखें 'नाड़ी'।

नाड़िक—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का शाक, घटिका, दण्ड।

नाड़िकेल—(सं. पुं.) नारिकेल, नारियल।

नाड़िया—(हिं. पुं.) चिकित्सक, वैद्य।

नाड़ी—(सं. स्त्री.) नली, देहस्थित गिरा,

गांडर घास, हठ योग के अनुसार जान-वाहिनी, श्वास-प्रश्वास-वाहिनी तथा

शक्तिवाहिनी गिराएँ, फोड़े का छिद्र, छः क्षणों का काल मान, बन्दूक की

नली; (मुहा.)—चलना—नाड़ी में फड़कान होना; —छूटना—नाड़ी की फड़कान

बन्द होना, मृत्यु होना; —देखना—कलाई की नाड़ियों पर हाथ की अंगु-

लियों को रखकर इनके स्पन्दन से रोग का निदान करना; —चक्र—(पुं.)

हठयोग के अनुसार नाभिदेश में स्थित एक अण्डाकार गाँठ जिससे निकलकर

सब नाड़ियाँ शरीर में फैली हैं; —चरण—(पुं.) पक्षी, चिड़िया; —जंघ—(पुं.)

काक, कौवा; —देह—(वि.) बहुत दुबला-पतला; (पुं.) गिरा का एक द्वारपाल, मूर्गी; —मंडल—(पुं.) विद्युत् रेखा; —यंत्र—(पुं.) मत्स्य-चिकित्सा का एक प्राचीन यंत्र; —वलय—(पुं.) समय निश्चित करने का एक प्राचीन यंत्र एक प्रकार की घड़ी; —यज—(पुं.) वह धाव

जिसके नीचे ही नीचे नली की तरह

छेद हो जाय और इसमें से बराबर पीव निकला करे; -शुद्धि-(स्त्री.) हठयोग के अनुसार नाड़ी-शोधन की एक विधि ।

नाणक-(सं. पुं.) मुद्रा, घातु; -परीक्षा-(स्त्री.) घातु-परीक्षा ।

नात-(हिं. पुं.) नातेदार, सम्बन्धी, सम्बन्ध, नाता ।

नातर-(हिं. अव्य.) नहीं तो ।

नाता-(हिं. पुं.) ज्ञाति, सम्बन्धी, कुटुम्ब की घनिष्ठता, सम्बन्ध, लगाव ।

नातिदीर्घ-(सं. वि.) जो अधिक लंबा न हो ।

नात्तिन-(हिं. स्त्री.) लड़की की लड़की ।

नातिशीतोष्ण-(सं. वि.) जो अधिक गरम या अधिक ठंडा न हो, गुणगुना ।

नाती-(हिं. पुं.) बेटों का बेटा ।

नाते-(हिं. अव्य.) सम्बन्ध से, वास्ते, लिये; -दार-(वि.) संबंधी ।

नाथ-(सं. पुं.) अधिपति, प्रभु, स्वामी, मालिक, पति; बैल, भैंसा आदि की नाक छेदकर उसमें बाँधी हुई रस्सी, साँप पालनेवाला मदारि; (स्त्री.) लड़ी के रूप में जोड़ने की क्रिया, नत्थी, पशुओं की नकेल नाथने की क्रिया या भाव ।

नाथता-(हिं. स्त्री.) प्रभुता, स्वामित्व ।

नाथत्व-(सं. पुं.) प्रभुता, प्रभुत्व ।

नाथना-(हिं. क्रि.स.) बैल, भैंसा आदि की नाक छेदकर उसमें रस्सी डालना, नाक छेदना, नकेल लगाना, किसी वस्तु को छेदकर उसमें तागा या रस्सी डालना, नत्थी करना, लड़ी के रूप में जोड़ना ।

नाथद्वारा-(सं. पुं.) उदयपुर राज्य के अन्तर्गत एक नगर जहाँ वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवों का एक प्रसिद्ध मन्दिर है जिसमें श्रीनाथजी की मूर्ति स्थापित है ।

नाथविद-(सं. वि.) शरण देनेवाला ।

नाथहरि-(सं. पुं.) पशु, चौपाया ।

नाद-(सं. पुं.) शब्द, अनुस्वार के समान उच्चारित होनेवाला वर्ण, ब्रह्म-स्वरूप घोष विशेष, अर्धचन्द्र, संगीत के अनुसार वह शब्द जो नाभि के ऊर्ध्व देश से उच्चारित होकर मुख से निकलता है, वर्णों के उच्चारण का एक प्रयत्न जिसमें कण्ठ को बहुत फैलाये या सिकोड़े बिना वायु निकालना पड़ता है, एक ऋषि का नाम, संगीत ।

नादज-(सं. वि.) वह जो नाद से उत्पन्न हो ।

नादना-(सं. स्त्री.) शब्द का गुण ।

नादना-(हिं. क्रि. अ., स.) शब्द करना,

वजाना, चिल्लाना, गरजना, प्रसन्न होना ।

नादपुराण-(सं. पुं.) एक उपपुराण का नाम ।

नादमुद्रा-(सं. पुं.) तन्त्रोक्त एक मुद्रा जिसमें दहिने हाथ की मुट्ठी को बन्द कर अँगूठा ऊपर उठा रहता है ।

नादविद्या-(सं. स्त्री.) संगीतशास्त्र ।

नादित-(सं. वि.) शब्द करता हुआ, वजता हुआ ।

नादिया-(हिं. पुं.) नादी, वह सुडौल अंगवाला बेल जिसको साथ लेकर साधु भीख मांगते हैं ।

नादिर-(अ. वि.) असाधारण, अद्भुत;

-शाह-(पुं.) फारस का एक क्रूर और पराक्रमी सुलतान जिसने १७३८ में दिल्ली पर अधिकार कर नगर में नृशंस जनवध कराया था; -शाही-(स्त्री.) नृशंस जनवध, निरंकुश शासन; (वि.) नादिरशाह-संबंधी, नृशंस ।

नाविहंद-(फा. वि.) न देनेवाला, जो ऋण न चुका सके ।

नादी-(हिं. वि.) शब्द करनेवाला, वजने-वाला ।

नादेय-(सं. पुं.) सेंधा नमक; (वि.) नदी में होनेवाला, नदी-सम्बन्धी ।

नादेयी-(सं. स्त्री.) नारंगी, अड़हुल, नागरमोथा, रेंडे का वृक्ष, वैजयन्ती ।

नादेहंद-(हिं. वि.) जो ऋण न चुका सके, नादिहंद ।

नाधन-(हिं. स्त्री.) चरखे के तकले में तागा रोकने के लिए लगाई हुई गोल टिकिया ।

नाधना-(हिं. क्रि. स.) बैल या घोड़े को रस्सी आदि से उस वस्तु में बाँधना जिसको उसे खींचकर ले जाना हो, जोतना, जोड़ना, सम्बद्ध करना, गूथना, गुहना, आरम्भ करना, शुरू करना ।

नाधा-(हिं. पुं.) वह रस्सी जिससे हल या कोल्हू की हरिस जुए से बाँधी जाती है, नारी, वह नाली जिसमें से होकर सिचाई के लिये कुएँ का पानी बहता है ।

नानक, गुरु नानक-(पुं.) सिक्खों के धर्म-प्रवर्तक प्रसिद्ध गुरु; -पंथ-(हिं. पुं.)

नानकजी का चलाया हुआ धर्म; -पंथी-(हिं. पुं.) गुरु नानक के धर्म का अनुयायी, सिक्ख; -शाह-(पुं.) गुरु नानक;

-शाही-(वि.) गुरु नानक से संबद्ध, नानक-पंथ का अनुयायी ।

नानकीन-(हिं. पुं.) एक प्रकार का मट-मैले रंग का सूती कपड़ा जो पहिले चीन में बनता था ।

नानस-(हिं. स्त्री.) सास की माता ।

नानसरा-(हिं. पुं.) पति या पत्नी का नाना ।

नाना-(सं. अव्य.) अनेक प्रकार के, बहुत तरह के, अनेक, बहुत ।

नाना-(हिं. पुं.) माता का पिता, माता-मह, माँ का बाप; (क्रि.स.) नीचा करना, प्रविष्ट करना, डालना, घुसाना ।

नानात्मवादी-(सं. पुं.) साख्य दर्शन का वह सिद्धान्त जो आत्मा की अनेकता मानता है ।

नानारूप-(सं. पुं, वि.) विविध प्रकार की आकृति (वाला) ।

नानार्थ-(सं. वि.) (वह शब्द) जिसके एक से अधिक अर्थ हों ।

नानावर्ण-(सं. वि.) जिसमें कई रंग हों ।

नानाविध-(सं. वि.) अनेक प्रकार या तरह का ।

नानिहाल-(हिं. पुं.) नाना-नानी के रहने का घर ।

नानी-(हिं. स्त्री.) माता की माता, मातामही ।

नान्ह-(सं. वि.) छोटा, लघु, क्षुद्र, नीच; (मुहा.)-कातना-बहुत बारीक काम करना ।

नान्हक-(हिं. पुं.) देखें 'नानक' ।

नान्हरिया-(हिं. वि.) क्षुद्र. छोटा ।

नान्ह्-(हिं. वि.) नन्हा, छोटा ।

नाप-(हिं. स्त्री.) किसी वस्तु का विस्तार जिसका निर्धारण किसी प्रचलित मानक से किया जाय, परिमाण, माप, किसी निर्दिष्ट लम्बाई को एक मानकर यह स्थिर करना कि अमुक वस्तु का विस्तार कितना है, मानदण्ड, नापना; -जोख-(स्त्री.) नापने या तोलने की क्रिया परिमाण या तोल जो नापकर या तोलकर स्थिर की जाय; -तौल-(स्त्री.) देखें 'नापजोख' ।

नापना-(हिं. क्रि.स.) किसी वस्तु का विस्तार इस प्रकार नियत करना कि वह मानक विस्तार का कितना गुना है, अनुमान करना, पता लगाना, मापना; (मुहा.) सिर नापना-सिर काट लेना ।

नापित-(सं. पुं.) नाई, नाऊ; -शाला-(स्त्री.) वह स्थान जहाँ क्षौरकर्म किया जाता है ।

नाफा-(फा. पुं.) कस्तूरी मृग की नाभि-स्थित थैली ।

नाबदान-(फा. पुं.) गंदा पानी, मल आदि बहने की नाली ।

नाभ-(सं. स्त्री.) चन्द्रमा का प्रकाश;

(हि. स्त्री.) नामि, ढोंडी, तुंडी, शिव का एक नाम, अस्त्रों का संहार; (पं.) सूर्य-वंश के एक राजा का नाम।

नाभक—(सं.पुं.) हरीतकी, हरे।

नाभस—(सं.पुं.) फलित ज्योतिष का एक योग।

नाभाक—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम।

नाभाग—(सं. पुं.) वैवस्वत मनु के एक पुत्र का नाम।

नाभादास—(पुं.) भक्तमाल के रचयिता एक प्रसिद्ध कवि।

नाभि—(सं. पुं.) चक्रमध्य, पहिये का विचला भाग, क्षत्रिय, गोत्र, व्यक्ति, महादेव; (स्त्री.) ढोंडी, तोंदी, तुण्डी, कस्तूरी;—कंटक—(पुं.) निकली हुई ढोंडी;—गुप्त—(पुं.) प्रियव्रत राजा का पौत्र;—गोलक—(पुं.) नामि का उमड़ा हुआ भाग;—च्छेदन—(पुं.) नवजात शिशु का नाल काटने की क्रिया;—ज—(पुं.) चतुर्मुख ब्रह्मा जिनकी उत्पत्ति विष्णु की नाभि से है;—नाला—(स्त्री.) नाभि में स्थित नाल;—पाक—(पुं.) बच्चों की ढोंडी पकने का एक रोग;—भू—(पुं.) ब्रह्मा;—ल—(वि.) उमड़ी हुई नामि-वाला;—शोथ—(पुं.) बालकों की नामि सूजने का एक रोग;—संबंध—(पुं.) गोत्र-संबंध।

नाभिका—(सं. स्त्री.) देखें 'नाभि'।

नाभोल—(सं.पुं.) स्त्रियों की कमर के नीचे का भाग, तोंदी का उमड़ा हुआ भाग।

नाभ्य—(सं. वि.) नामि-सम्बन्धी; (पुं.) शिव, महादेव।

नाम—(सं. पुं.) वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह का बोध हो, संज्ञा, प्रसिद्धि, वाक, यश, सुनाम; (मुहा.)—उछालना—दुर्नाम या अपयश करना;—उठ जाना—नाम तक हट जाना;—कमाना—प्रसिद्ध होना;—करना—नाम मात्र के लिए करना;—का—नामधारी, केवल नाम के लिए;—को—योड़ा-सा;—को मरना—यश प्राप्त करने का उद्योग करना;—छटना—नामावली में नाम का लिखा जाना;—जगाना—यश फैलाना;—जपना—नाम की यादगार बनी रहना; किसी देवता का वारंवार नाम लेना;—डुबाना—यश का नाश करना;—डूबना—अपमानित या कलंकित करना;—धर(रा)ना—दुर्नाम करना;—न लेना—दूर रहना;—निफल जाना—किसी बात के लिये प्रसिद्ध या कलंकित होना; (किसी के) नाम पढ़ना—किसी के भरोसे रखा जाना;

(किसी के) नाम पर—किसी के निमित्त;—पर धवा लगना—अपमानित होना; (किसी के) नाम पर बैठना—किसी के भरोसे रहना;—(किसी के) नाम पर मरना—किसी के प्रेम में लिप्त होना;—पाना—प्रसिद्ध होना;—वद करना—अपयश करना;—वाकी रहना—मरने पर सिवाय नाम के कुछ न रह जाना;—विकना—अति प्रसिद्ध होना;—मितना—कीर्ति का लोप होना;—मात्र—बहुत अल्प परिमाण का;—रखना—नामकरण करना;—रह जाना—कीर्ति बनी रहना;—लगाना—अपराधी में सम्मिलित करना, अपराधी ठहराना; (किसी के) नाम लिखना—किसी के खते में लिखना; (किसी का) नाम लेकर—किसी के नाम के प्रभाव पर;—लेना—कहना, उच्चारण करना, प्रशंसा करना; नामोनिशान—पता;—से—किसी शब्द के व्यवहार से, किसी का नाम लेने से; (किसी के) नाम से कांपना—नाम सुनते ही डर जाना;—हौना—प्रसिद्ध होना, किसी अपराध का दोष लगना या होना; क—(वि.) नाम से प्रसिद्ध, नाम धारण करनेवाला;—करण—(पुं.) हिन्दुओं के वारह संस्कारों में से एक संस्कार जिसमें बालक का नाम रखा जाता है, नाम रखने का कृत्य;—कर्म—(पुं.) नामकरण संस्कार;—कीर्तन—(पुं.) ईश्वर के नाम का जप, भगवान का भजन;—ग्राम—(पुं.) नाम और पता;—ग्रह, ग्राहण—(पुं.) नाम लेकर संमोघन करना;—देव—(पुं.) ये महाराष्ट्र देश के कृष्णमक्त थे। इनकी कथा भक्तमाल में लिखी है;—घन—(पुं.) एक संकर राग का नाम;—घराई—(हिं. स्त्री.) अपकीर्ति, निन्दा;—घाम—(हिं. पुं.) पता-ठिकाना;—धारक—(वि.) किसी नाम को धारण करनेवाला, नाम मात्र का;—धारी—(हिं. वि.) नामवाला, नामक;—धेय—(पुं.) नामकरण, नाम, संज्ञा, आख्या;—नामिक—(पुं.) परमेश्वर;—निक्षेप—(पुं.) नामस्मरण;—बोला—(हिं. वि.) नाम लेनेवाला, जपनेवाला;—मात्र—(वि., अव्य.) कहने मर को;—माला—(स्त्री.) एक प्रकार का कोष;—मुद्रा—(स्त्री.) अंगूठी पर सोदा हुआ नाम, नामांकित मुद्रा;—यज—(पुं.) वह यज्ञ जो केवल नाम के लिये किया जाता है;—लेवा—(हिं.पुं.) नाम लेनेवाला, उत्तरायिका, सन्तति;—शेष—(वि.) मृत, मरा हुआ, जिसका केवल नाममात्र बच गया हो। नामदं—(फा. वि.) पुंस्त्व-शक्ति से हीन, नपुंसक, क्लीव। नामदी—(फा. स्त्री.) नामदं की स्थिति या भाव। नामांकित—(सं. वि.) जिस पर नाम लिखा हो। नामा—(सं. वि.) नामधारी, नामवाला; (पुं.) नामदेव भक्त। नामापराध—(सं.पुं.) भगवान के नाम लेते समय अज्ञान से हो जानेवाली दस चूक। नामालूम—(फा.वि.) जो मालूम या विदित न हो, अविदित, अज्ञात, अपरिचित। नामावली—(सं. स्त्री.) नामों की सूची, वह कपड़ा जिस पर चारों ओर किसी देवता का नाम छपा हो, रामनामी। नामिक—(सं. वि.) नामवाला। नामी—(हिं. वि.) नामवाला, नामधारी, प्रसिद्ध;—गिरामी—(वि.) विख्यात, प्रसिद्ध। नाम्य—(सं.वि.) झुकाने योग्य। नायं—(हिं.पुं.) देखें 'नाम'; (अव्य.) नहीं। नाय—(सं.पुं.) नय, नीति, युक्ति, नेता, अगुआ। नायक—(सं. पुं.) नेता, अगुआ, श्रेष्ठ पुरुष, माला के बीच का नग, सुमिरनी, सरदार, स्वामी, सेनापति, वह प्रधान पुरुष जिसका चरित्र किसी नाटक या काव्य में वर्णित हो, संगीत-विद्या में निपुण मनुष्य, कलाकार, एक वर्णवृत्त का नाम, एक राग का नाम। नायका—(हिं. स्त्री.) वेश्या की माँ, कुटनी, दूती, नायिका। नायकाधिप—(सं. पुं.) नृप, राजा। नायकी—(सं. स्त्री.) एक राग का नाम;—कान्हड़ा—(पुं.) एक राग जिसमें सब कोमल स्वर लगते हैं;—मल्लार—(पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग। नायडू—(पुं.) कोचीन के उत्तर भाग में रहनेवाली एक जाति। नायन—(हिं. स्त्री.) नापित की स्त्री। नायब—(अ. वि.) सहायक, सहकारी, अधीनस्थ, उप। नायबी—(अ. स्त्री.) नायब होने की स्थिति या भाव, सहायकत्व। नायर—(हिं. पुं.) बड़ी नाव; (पुं.) मलयालम की एक जाति। नायिका—(सं. स्त्री.) दुर्गा, शक्ति, शृंगार-रस का अवलंबन करनेवाली मुन्दर स्त्री, वह स्त्री जिसके चरित्र का वर्णन किसी काव्य या नाटक में किया गया हो, स्त्री नेता।

सन्तति;—शेष—(वि.) मृत, मरा हुआ, जिसका केवल नाममात्र बच गया हो। नामदं—(फा. वि.) पुंस्त्व-शक्ति से हीन, नपुंसक, क्लीव। नामदी—(फा. स्त्री.) नामदं की स्थिति या भाव। नामांकित—(सं. वि.) जिस पर नाम लिखा हो। नामा—(सं. वि.) नामधारी, नामवाला; (पुं.) नामदेव भक्त। नामापराध—(सं.पुं.) भगवान के नाम लेते समय अज्ञान से हो जानेवाली दस चूक। नामालूम—(फा.वि.) जो मालूम या विदित न हो, अविदित, अज्ञात, अपरिचित। नामावली—(सं. स्त्री.) नामों की सूची, वह कपड़ा जिस पर चारों ओर किसी देवता का नाम छपा हो, रामनामी। नामिक—(सं. वि.) नामवाला। नामी—(हिं. वि.) नामवाला, नामधारी, प्रसिद्ध;—गिरामी—(वि.) विख्यात, प्रसिद्ध। नाम्य—(सं.वि.) झुकाने योग्य। नायं—(हिं.पुं.) देखें 'नाम'; (अव्य.) नहीं। नाय—(सं.पुं.) नय, नीति, युक्ति, नेता, अगुआ। नायक—(सं. पुं.) नेता, अगुआ, श्रेष्ठ पुरुष, माला के बीच का नग, सुमिरनी, सरदार, स्वामी, सेनापति, वह प्रधान पुरुष जिसका चरित्र किसी नाटक या काव्य में वर्णित हो, संगीत-विद्या में निपुण मनुष्य, कलाकार, एक वर्णवृत्त का नाम, एक राग का नाम। नायका—(हिं. स्त्री.) वेश्या की माँ, कुटनी, दूती, नायिका। नायकाधिप—(सं. पुं.) नृप, राजा। नायकी—(सं. स्त्री.) एक राग का नाम;—कान्हड़ा—(पुं.) एक राग जिसमें सब कोमल स्वर लगते हैं;—मल्लार—(पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग। नायडू—(पुं.) कोचीन के उत्तर भाग में रहनेवाली एक जाति। नायन—(हिं. स्त्री.) नापित की स्त्री। नायब—(अ. वि.) सहायक, सहकारी, अधीनस्थ, उप। नायबी—(अ. स्त्री.) नायब होने की स्थिति या भाव, सहायकत्व। नायर—(हिं. पुं.) बड़ी नाव; (पुं.) मलयालम की एक जाति। नायिका—(सं. स्त्री.) दुर्गा, शक्ति, शृंगार-रस का अवलंबन करनेवाली मुन्दर स्त्री, वह स्त्री जिसके चरित्र का वर्णन किसी काव्य या नाटक में किया गया हो, स्त्री नेता।

नारंग—(सं. पुं.) नारंगी का पेड़ या फल ।
 नारंगी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का मीठा नींबू, संतरा; (वि.) नारंगी के रंग का ।
 नार—(सं. पुं.) नरसमूह, तुरत का जनमा हुआ गाय का बछवा, जल, पानी, सोंठ; (वि.) मनुष्य-संबंधी, परमात्मा-सम्बन्धी: (हि. स्त्री.) गरदन, गला, जुलाहे की ढरकी; (पुं.) नाला, मोटा रस्सा, नारा, जुआ बाँधने की रस्सी, पशुओं का समूह जो चरने के लिए जाता हो; (मुहा.)—नवाना, नीची करना—सिर झुकाना, लज्जावश सामने न ताकना ।
 नारक—(सं. पुं.) नरक में रहनेवाला जीव ।
 नारकी—(सं. वि.) नरक-मोगी, नरक में जाने योग्य कर्म करनेवाला, पातकी ।
 नारकीट—(सं. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा, वह अघम पुरुष जो दूसरे को आशा देकर निराश करता हो ।
 नारकेर—(सं. पुं.) नारिकेल, नारियल ।
 नारद—(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध देवर्षि जो ब्रह्मा के पुत्र थे, (वे बड़े हरिमक्त और कलहप्रिय थे), विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम, एक प्रजापति का नाम, एक गन्धर्व का नाम, झगड़ा लगानेवाला मनुष्य; —पुराण—(पुं.) अठारह महा-पुराणों में से एक जिसको महामुनि वेद-व्यास ने रचा था । इसमें नाना प्रकार की धर्म कथा वर्णित या लिखित है, बृह-घ्नारदीय नामक उपपुराण का नाम; —संहिता—(स्त्री.) एक धर्मशास्त्र का नाम ।
 नारदा—(सं. स्त्री.) ऊख की जड़ ।
 नारदीय—(सं. वि.) नारद-संबंधी, नारद का ।
 नारना—(हि. क्रि. स.) थाह लगाना, पता लगाना ।
 नारसिंह—(सं. पुं.) एक उपपुराण जिसमें नृसिंह के अवतार की कथा का वर्णन है, तन्त्र का नाम; (वि.) नृसिंह भगवान-सम्बन्धी ।
 नारसिंही—(हि. वि.) नारसिंह-संबंधी ।
 नारा—(सं. स्त्री.) जल, पानी; (हि. पुं.) सूत या डोरी जिससे स्त्रियाँ बाघरा बाँधती हैं, नीवी, हल के जुए में बाँधने की रस्सी, बरसाती पानी बहने का गड्ढा, नाला, छोटी नदी, लाल या पीला रंगा हुआ सूत जो देवताओं को चढ़ाया जाता है, खेड़ी, सामूहिक जय-घोष, चीत्कार आदि ।
 नाराच—(सं. पुं.) लोहे का बना हुआ वाण, दुर्दिन, ऐसा दिन जब बादल हों और अंधड़ चले, एक वर्षावृत्त का नाम जिसको तारका या महामालिनी भी

कहते हैं, चौबीस मात्राओं का एक छन्द ।
 नाराचिका—(सं. स्त्री.) सोनारों का सोना-चाँदी तौलने का काँटा, एक वर्षा-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में आठ-आठ अक्षर होते हैं ।
 नाराची—(सं. स्त्री.) रत्न तौलने का छोटा काँटा ।
 नाराज—(फा. वि.) क्रुद्ध, अप्रसन्न, क्षुब्ध ।
 नाराजगी—(फा. स्त्री.) नाराज या क्रुद्ध होने की स्थिति या भाव, अप्रसन्नता ।
 नारायण—(सं. पुं.) परमात्मा, विष्णु, ईश्वर, दुर्योधन की एक सेना का नाम, कृष्ण यजुर्वेद की एक उपनिषद्, एक प्राचीन अस्त्र का नाम; —प्रिय—(पुं.) शिव, महादेव, पीला चन्दन; —बलि—(पुं.) वह कर्म जो पापियों के मरने पर प्रायश्चित्त के रूप में किया जाता है ।
 नारायणास्त्र—(सं. पुं.) विष्णु के चार अस्त्र; यथा—शंख, चक्र, गदा और पद्म ।
 नारायणी—(सं. स्त्री.) दुर्गा, लक्ष्मी, गंगा, सतावर, मुद्गल मुनि की स्त्री का नाम, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम, श्रीकृष्ण की उस सेना का नाम जिसको उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन की सहायता के लिये दिया था ।
 नारायणीय—(सं. वि.) नारायण-सम्बन्धी ।
 नाराशंस—(सं. पुं.) पितरों को सोमपान अर्पण करने का चमत्कार, वेदों के वे मन्त्र जिनमें विशेष मनुष्यों की प्रशंसा की गई है, प्रशस्ति, पितर ।
 नाराशंसी—(सं. वि.) स्तुति-संबंधी; (स्त्री.) मनुष्यों की प्रशंसा ।
 नारि—(हि. स्त्री.) देखें 'नारी' ।
 नारिक—(सं. वि.) जल-संबंधी, आत्मा-संबंधी ।
 नारिकेर, नारिकेल—(सं. पुं.) नारियल ।
 नारिकेलोदक—(सं. पुं.) नारियल का पानी ।
 नारियल—(हि. पुं.) खजूर की जाति का एक वृक्ष जो खम्बे की तरह पचास-साठ गज ऊँचा होता है, (इसके फलों पर घना रेशादार छिलका होता है, फल के भीतर की सफेद गरी खाने में मीठी होती है), नारियल के गोले का बना हुआ हुक्का ।
 नारियली—(हि. स्त्री.) नारियल का खोपड़ा, नारियल का हुक्का, नारियल की ताड़ी ।
 नारी—(सं. स्त्री.) अबला, वामा, स्त्री, देखें 'नाड़ी, नाली'; —त्व—(पुं.) नारी के सद्गुण, सद्भाव आदि ।
 नारीच—(सं. पुं.) एक प्रकार का शाक ।
 नारीतरंगक—(सं. पुं.) व्यभिचारी मनुष्य,

स्त्रियों के चित्त को चंचल करनेवाला मनुष्य ।
 नारीदूषण—(सं. पुं.) स्त्रियों के छः दूषणीय कार्य, यथा—सुरापान, दुर्जन-संसर्ग, पति-विरह, भ्रमण, अन्य गृह में वास तथा अधिक सोना ।
 नारीयान—(सं. पुं.) स्त्रियों की सवारी ।
 नारीष्ट—(सं. वि.) जो स्त्रियों को प्रिय हो; (स्त्री.) मल्लिका, चमेली ।
 नारीष्ठ—(सं. पुं.) एक गन्धर्व का नाम ।
 नारुतुद—(सं. वि.) जिसके शरीर पर किसी प्रकार का आघात न लग सके ।
 नारु—(हि. पुं.) जूँ, ढील, नहस्या नामक रोग ।
 नार्तिक—(सं. वि.) खूब नाचनेवाला ।
 नार्पत्य—(सं. वि.) नृपति या राजा संबंधी ।
 नार्मत—(सं. पुं.) पूर्व पुरुष के नाम से उत्पन्न ।
 नार्मद—(सं. पुं.) वह शिवालिंग जो नर्मदा में पाया जाता है ।
 नार्मर—(सं. पुं.) एक असुर का नाम जिसको इन्द्र ने मारा था ।
 नार्भिन्—(सं. वि.) सहज में झुकनेवाला, कोमल ।
 नार्पंग—(सं. पुं.) नारंगी, स्त्री का अंग ।
 नार्पतिवत्—(सं. पुं.) चिरायता ।
 नालंबी—(सं. स्त्री.) महादेव जी की वीणा का नाम ।
 नाल—(सं. स्त्री.) कमल-दण्ड; कमल, कुमुद आदि फूलों की पोली लंबी डंडी, पौधे का डंठल, (पुं.) हरताल, लिंग; जल बहन का स्थान, गर्मस्थ बालक की नाभि से मिली हुई मोटी तन्तु की बनी रक्तवाही नली, नार, वह रेशा जो कलम बनाते समय छीलने पर निकलता है, सोनारों की फुंकनी, जुलाहों की सूत लपेटने की छूछी, बन्दूक की नली; गेहूँ, जौ आदि की पतली लंबी डंडी जिसमें बाल लगती है, खोशा, नाली, एक प्रकार का पहाड़ी बाँस, जल में उगनेवाला एक पौधा, कसरत करने का बहुत भारी पत्थर ।
 नाल—(अ. पुं.) घोड़े के टाप में लगाया जानेवाला लोहे का टुकड़ा; —बंद—(पुं.) नाल बनानेवाला शिल्पी ।
 नालकटाई—(हि. स्त्री.) नवजात शिशु के नाल काटने की क्रिया, इस काम का शूलक ।
 नालक—(सं. पुं.) उड़द ।
 नालकी—(हि. स्त्री.) धन्वाकार छाजन-वाली दोनों ओर से खुली पालकी जिस पर व्याह के समय दूल्हा बैठकर

जाता है।

नालवांस-(हि. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी वांस।

नालवंश-(सं. पुं.) नरसल, नरकट।

नालशाक-(सं.पुं.) एक प्रकार का साग।

नाला-(हि. पुं.) वर्षा का जल बहने का लंबा-चौड़ा गड्ढा, जलप्रणाली, जल-प्रवाह, ऐसे मार्ग से बहनेवाला जल, रंगीन गड्ढेदार सूत, नारा।

नालि-(सं. स्त्री.) कमल की डंडी, नाड़ी, शिरा, -क-(पुं.) भैंसा, कमल, एक

प्राचीन शस्त्र, एक प्रकार का शाक; -का-(स्त्री.) छोटा डंठल, नाली,

जुलाहों की सूत लपेटने की छुच्छी, एक प्रकार का गन्ध-द्रव्य; -केर-(पुं.) नारियल;

-केरी-(स्त्री.) एक प्रकार का शाक; -जंघ-(पुं.) डोमकौवा।

नालिनी-(सं. स्त्री.) नाक का छेद।

नालिश-(फा. स्त्री.) न्यायालय में किया जानेवाला दावा या अभियोग।

नाली-(सं. स्त्री.) करेमू का साग, पच, कमल, घटीयन्त्र, घड़ी, नाड़ी, घमनी, मनःशिल; (हि.स्त्री.) जल बहने का पतला मार्ग, मोरी, पनाला, तलवार के बीचोबीच लंबे बल की लकीर, घोड़े की पीठ पर का गड्ढा, चौपायों को दवा पिलाने का ढरका।

नालीक-(सं. पुं.) शर, बाण, पच-समूह, मृणाल की डंडी।

नालीघटी-(सं. स्त्री.) एक प्रकार की प्राचीन घड़ी जिससे पल, दण्ड आदि का पता लग जाता था।

नालीय-(सं. पुं.) कदम्ब का वृक्ष।

नालीव्रण-(सं. पुं.) नाड़ीव्रण, नामूर।

नालुक-(सं.पुं.) एक प्रकार का गन्धद्रव्य।

नालौर-(हि.वि.) अपनी प्रतिज्ञा को मंग करनेवाला, कहकर मुकर जानेवाला।

नावं-(हि. पुं.) देखें 'नाम'।

नाव-(हि. स्त्री.) जल के ऊपर तरनेवाली लोहे, लकड़ी आदि की बनी हुई सवारी, नौका, जलयान।

नावक-(हि. पुं.) मल्लाह, मांझी, केवट।

नावघाट-(हि. पुं.) नावों के ठहरने का घाट।

नावना-(हि. क्रि. स.) झुकाना, नवाना, घुसाना, फेंकना, गिराना, डालना, प्रविष्ट करना।

नावमिक-(सं. वि.) नौ के स्थान पर, नवमी-संबंधी।

नावर-(हि. पुं.) नाव, नौका, नाव को

घारा में ले जाकर चक्कर देने की क्रीड़ा।

नाविक-(सं. पुं.) कर्णधार, मल्लाह, मांझी; -विद्या-(स्त्री.) जहाज चलाने की विद्या।

नावी-(सं. पुं.) नौका, जहाज आदि चलानेवाला, नाविक।

नावीपजीवी-(सं.पुं.) वह जो नाव आदि चलाकर अपनी जीविका चलाता है।

नाव्य-(सं. वि.) जो नाव के बिना पार नहीं किया जा सकता; (पुं.) नयापन, युवावस्था।

नाश-(सं. पुं.) ध्वंस, अदर्शन, पलायन, भाग जाना।

नाशक-(सं. वि.) ध्वंसक, नाश करनेवाला, वध करनेवाला, दूर करनेवाला, मिटा देनेवाला।

नाशकारी-(हि. वि.) देखें 'नाशक'।

नाशन-(सं. पुं.) उच्छेदन, विलोपन।

नाशना-(हि. क्रि.स.) देखें 'नासना'।

नाशपाती-(सं. स्त्री.) एक मझोले आकार का वृक्ष जिसकी पत्तियाँ अमरुद की पत्तियों के समान होती हैं, इसका गोल फल कुरकुरा और खट-मीठा होता है।

नाशयित्री-(सं. स्त्री.) नाश करनेवाली।

नाशवान्-(सं. वि.) नाश होनेवाला, नश्वर, अतित्य।

नाशित-(सं. वि.) नष्ट किया हुआ।

नाशी-(सं. वि.) नाश होनेवाला, नष्ट होनेवाला, नाशक, नाश करनेवाला।

नाशुक-(सं. वि.) ध्वंसशील, नाश होनेवाला।

नाश्य-(सं. वि.) नाश होने योग्य।

नास-(हि. स्त्री.) नाक से सूंधी जानेवाली औषध, सुंधनी।

नासत्व-(सं. पुं.) अश्विनीकुमार।

नासत्या-(सं. स्त्री.) अश्विनी नक्षत्र।

नासदान-(हि.पुं.) सुंधनी रखने की डिबिया।

नासना-(हि. क्रि. स.) नष्ट करना, मार डालना।

नासमस-(हि. वि.) जिसे समस या वृद्धि न हो, निर्वृद्धि, वेवकूप।

नासमसी-((हि. स्त्री.) नासमस होने का भाव या स्थिति, वेवकूपी।

नासांतिक-(सं. वि.) नाक तक।

नासा-(सं. स्त्री.) नासिका, नाक का छेद, नयना, अङ्गुष्ठ का पीघा, द्वार के ऊपर की लकड़ी, भरेटा।

नासानाहु-(सं. पुं.) एक प्रकार का नाक का रोग।

नासापाक-(सं. पुं.) नाक का एक रोग।

नासापुट-(सं.पुं.) नाक की जिल्ली, नयना।

नासाबंध-(सं. पुं.) नाक का वह छेद जिसमें नथिया पहिनी जाती है।

नासारोग-(सं.पुं.) नाक में होनेवाला रोग।

नासालु-(सं. पुं.) कायफल का वृक्ष।

नासावंश-(सं. पुं.) नाक की हड्डी।

नासाविवर-(सं. पुं.) नाक का छेद।

नासिका-(सं.स्त्री.) घ्राणेंद्रिय, नाक, नासा।

नासिकाग्र-(सं.पुं.) नाक का अगला भाग।

नासिकामल-(सं.पुं.) नाक का मल, नटा।

नासिकाशब्द-(सं. पुं.) नाक से निकलनेवाला शब्द।

नासिक्य-(सं. पुं.) नासिका, नाक, दक्षिण का एक देश, नासिक, अश्विनी-कुमार; (वि.) नाक से उत्पन्न।

नासी-(हि. वि.) देखें 'नासी'।

नासीर-(सं. पुं.) सेनानायक के आगे-आगे जय-घोष करते हुए चलनेवाला सैन्यदल; (वि.) आगे चलनेवाला।

नासूर-(अ. पुं.) घाव, फोड़े आदि का बहुत गहरा छेद जिसमें से बराबर मवाद बहता रहता है, नाड़ीव्रण।

नास्ति-(सं.स्त्री.अव्य.) अविद्यमानता, नहीं।

नास्तिक-(सं.वि.पुं.) (वह) जो ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानता, पाखण्डी, परलोक को न माननेवाला; -ता-(स्त्री.) ईश्वर या परलोक को न मानने का अविश्वास, ईश्वर में अविश्वास।

नास्तिक्य-(सं. पुं.) देखें 'नास्तिकता'।

नास्तिता-(सं. स्त्री.) नास्तित्व, अविद्यमानता।

नास्तिद-(सं.पुं.) आन्न वृक्ष, आम का पेड़।

नास्तिवाद-(सं. पुं.) नास्तिकों का मत।

नास्य-(सं. वि.) नासिका-संबंधी; (पुं.) बेल की नाक में बँधी हुई रस्ती।

नाह-(सं. पुं.) बन्वन, किनारा; (हि. पुं.) नाथ, नामि, पहिये के मध्य का छिद्र।

नाहनूह-(हि. स्त्री.) अस्वीकार, नहीं, नहीं का शब्द।

नाहर-(हि. पुं.) सिंह, शेर, व्याघ्र, बाघ, टेमू का फूल; -सांत-(पुं.) घोड़े का दम फूलने का रोग।

नाहरु-(हि. पुं.) नहरुवा नामक रोग।

नाहिन-(हि. अव्य.) नहीं है।

नाहो-(हि. अव्य.) नहीं।

नाहूप-(सं. पुं.) नहाय राजा का पुत्र।

नित-(हि. अव्य.) नहीं 'नित्य'।

निद-(हि. वि.) निद।
 निदना-(हि.क्रि.स.) निन्दा करना, अप-
 मानित करना।
 निदरना-(हि.क्रि.स.) निन्दा करना।
 निदक-(सं.पुं.) निन्दा करनेवाला व्यक्ति।
 निदनीय-(सं. वि.) निन्दा करने योग्य।
 निदरिया-(हि. स्त्री.) निद्रा, नीद।
 निदा-(सं. स्त्री.) किसी का दोष-कथन,
 बदनामी, कलंक, अपयश।
 निदाई-(हि. स्त्री.) खेत की घास, तृण
 आदि उखाड़ने का काम, निराने का
 शुल्क।
 निदाना-(हि.क्रि.स.) देखें 'निराना'।
 निदासा-(हि. वि.) जिसको नीद आती
 हो, उनींदा।
 निदा-स्तुति-(सं. स्त्री.) निदा और
 प्रशंसा, व्याज-स्तुति।
 निदित-(सं. वि.) जिसकी निन्दा की गई
 हो, दूषित, बदनाम।
 निदिया-(हि. स्त्री.) निद्रा, नींद।
 निद- (सं. वि.) निन्दा करन योग्य,
 निदनीय।
 निव-(सं. पुं.) नीम का पेड़।
 निवकौरी-(हि. स्त्री.) नीम का फल।
 निवार्क-(सं. पुं.) एक वैष्णव धर्म-प्रव-
 त्तक, उनका चलाया हुआ मत।
 निवू, निवूक-(सं. पुं.) कागजी नीबू।
 निः-(सं. अव्य.) 'विहीन' अर्थ का एक
 उपसर्ग।
 निःकपट-(हि. वि.) देखें 'निष्कपट'।
 निःकाम-(हि. वि.) देखें 'निष्काम'।
 निःकारण-(सं. वि.) कारण-शून्य, अनि-
 मित।
 निःकासन-(सं. पुं.) वहिष्कार, अपसरण।
 निःकासित-(सं. वि.) वहिष्कृत, नि-
 सारित।
 निःक्षत्र-(सं. वि.) क्षत्रियरहित।
 निःक्षिप्त-(सं. वि.) प्रक्षिप्त, फेंका हुआ।
 निःक्षेप-(सं. पुं.) फेंकना, अर्पण, विश्वास-
 पूर्वक अपना द्रव्य दूसरे के पास रखना।
 निःछल-(हि. वि.) देखें 'निश्छल'।
 निःपक्ष-(सं. वि.) देखें 'निष्पक्ष'।
 निःपाप-(सं. वि.) देखें 'निष्पाप'।
 निःप्रभ-(सं. वि.) ज्योतिरहित।
 निःप्रयोजन-(सं. वि.) व्यर्थ।
 निःफल-(सं. वि.) देखें 'निष्फल'।
 निःशंक-(सं. वि.) शंकारहित, निर्भय,
 निडर।
 निःशब्द-(सं. वि.) शब्दरहित, जहाँ शब्द
 हो, जो शब्द न करता हो।

निःशम-(सं. पुं.) निन्दा, शोक, चिन्ता।
 निःशलाक-(सं. वि.) निर्जन, सूतसान।
 निःशल्य-(सं. वि.) निष्कण्टक, विना
 प्रतिबन्ध का।
 निःशेष-(सं. वि.) सम्पूर्ण, समूचा, पूरा,
 समाप्त, जिसका कोई अंश न बच गया
 हो, अवशेष रहित।
 निःशेषित-(सं. वि.) जो समाप्त हो
 या किया जा चुका हो।
 निःशोध्य-(सं. वि.) शोधा हुआ।
 निःश्रयणी, निःश्रयिणी-(सं. स्त्री.) काठ
 की सीढ़ी।
 निःश्रेणी-(सं. स्त्री.) काठ की सीढ़ी,
 खजूर का वृक्ष।
 निःश्रेयस-(सं. पुं.) मुक्ति, मोक्ष, मंगल,
 कल्याण, भक्ति, शिव, महादेव।
 निःश्वास-(सं. पुं.) प्राणवायु का नाक या
 मुख से निकलना, नाक से निकली हुई
 वायु, सांस।
 निःसंकल्प-(सं. वि.) इच्छारहित।
 निःसंकोच-(सं. अव्य.) विना संकोच के,
 बेघड़क।
 निःसंग-(सं. वि.) विना मेल का,
 जिसमें अपना कुछ अर्थ न हो, निर्लिप्त।
 निःसंज्ञ-(सं. वि.) जिसे संज्ञा न हो,
 संज्ञाहीन, बेहोश।
 निःसंतान-(सं. वि.) जिसके सन्तान न हो।
 निःसन्देह-(सं. वि.) जिसमें सन्देह न हो,
 (अव्य.) विना सन्देह के।
 निःसन्धि-(सं. वि.) जिसमें सन्धि या
 दरार न हो, सन्धिरहित, कसा या
 गठा हुआ।
 निःसंपात-(सं. पुं.) रात्रि, रात; (वि.)
 जिसमें से आना-जाना न हो सके।
 निःसंशय-(सं. वि.) जिसमें संशय न हो।
 निःसत्त्व(त्त्व)-(सं. वि.) जिसमें सत्त्व या
 सार न हो।
 निःसरण-(सं. पुं.) मृत्यु, मरण, निर्वाण,
 निर्गम, निकास, निकलने का मार्ग।
 निःसार-(सं. पु.) घर में से निकलने
 का पथ, द्वार या मार्ग।
 निःसारित-(सं. वि.) बाहर निकाला हुआ।
 निःसीम-(सं. वि.) बहुत बड़ा या अधिक,
 सीमारहित।
 निःसूत-(सं. वि.) निकला हुआ।
 निःस्नेह-(सं. वि.) रतहीन, प्रेमरहित,
 जिसमें चिकनाहट न हो, घृत या तैल
 से रहित।
 निःस्नेहा-(सं. वि.) अनुरागरहित, जिसमें
 प्रेम न हो।

निःस्पंद-(सं. वि.) निश्चल, जो हिलता-
 डोलता न हो।
 निःस्पृह-(सं. वि.) आशाशून्य, इच्छा-
 रहित, निर्लोक।
 निःस्पंद-(सं. पुं.) निकास, स्राव।
 निःस्रव-(सं. पुं.) निर्गमन, निकास।
 निःस्राव-(सं. पुं.) क्षरण, माड़, व्यय।
 निःस्व-(सं. वि.) धनहीन, दरिद्र, कंगाल।
 निःस्वार्थ-(सं. वि.) जो अपना मतलब
 न निकालता हो, वह जो अपना स्वार्थ न
 साधता हो।
 नि-(सं. उप.) एक उपसर्ग जो अधो-
 भाव, समूह, आदेश, नित्यता आदि का
 बोधक है।
 निअर, निअरे-(हि. अव्य.) समीप, पास,
 निकट।
 निअराना-(हि.क्रि.अ.) पास या नजदीक
 आना, पहुँचना आदि।
 निआन-(हि. अव्य.) अंत में; (पुं.)
 निदान, परिणाम।
 निकटक-(हि. वि.) देखें 'निष्कटक'।
 निकंदन-(सं. पुं.) नाश, ध्वंस।
 निकंदना-(हि. क्रि. स.) नाश करना।
 निकट-(सं. वि.) समीप का, पास का;
 (अव्य.) पास, सन्निकट; -ता-(स्त्री.)
 समीपता; -पना-(हि. पुं.) समीपता;
 -वर्ती-(वि.) निकट का, समीप का; -
 संबंधी-(सं. वि.) निकट का संबंधी;
 -स्थ-(वि.) पास का, समीप का।
 निकटागत-(सं. वि.) जो पास या निकट
 आ गया हो।
 निकटागमन-(सं. पुं.) समीप में आना।
 निकती-(हि. स्त्री.) छोटा तराजू या काँटा।
 निकम्मा-(हि. वि.) जो कोई व्यवसाय
 न करता हो, जिससे कुछ काम न बने,
 जो किसी काम में न आ सके, व्यर्थ का।
 निकर-(सं. पुं.) समूह, झुंड, राशि, ढेर,
 निधि, धन।
 निकरना-(हि. क्रि. अ.) निकलना।
 निकर्तन-(सं. पुं.) काटने की क्रिया।
 निकर्मा-(हि. वि.) जो काम-धंधा न
 करता हो, आलसी।
 निकर्षण-(सं. पुं.) घर के बाहर का
 मैदान, समीपस्थता, पड़ोस।
 निकलंक-(हि. वि.) निर्दोष।
 निकलंकी-(हि. पुं.) विष्णु का दसवाँ
 अवतार, कल्कि अवतार।
 निकल-(अ. पुं.) एक सफेद घातु।
 निकलना-(हि. क्रि. अ.) भीतर से बाहर
 आना, किसी मिला हुई वस्तु का अलग

होना, जाना, अतिक्रमण करना, पार जाना, व्यतीत होना, घोड़े आदि का सवारी लेकर चलने योग्य बनाया जाना, प्रकाशित होना, हिसाब करने पर कुछ धन देने को बाकी होना, प्राप्त होना, अलग होना, उचड़ना, हटना, मिटना, दूर होना, शरीर पर उत्पन्न होना, मुक्त होना, छूटना, नई बात आदि प्रकट होना, उत्तीर्ण होना, खुलना, पृथक् होना, उदय होना, निश्चित होना, ठहराया जाना, किसी ओर उमाड़ होना, उपस्थित होना, दिखाई पड़ना, प्रश्न का ठीक उत्तर प्राप्त होना, फैलाव होना, जारी होना, प्रचलित होना, कहकर दायित्व से भागना प्रमाणित होना, सिद्ध होना, खपना, बच जाना, विकना, छूटना, छिड़ना, (मुहा.)-जाना-चला जाना, नष्ट होना ।

निकलवाना-(हिं. क्रि. स.) निकलने का काम दूसरे से कराना ।

निकष-(सं. पुं.) कसौटी, सान चढ़ाने का पत्थर ।

निकषण-(सं. पुं.) घिसने की क्रिया ।

निकषा-(सं. स्त्री.) विश्रवा की पत्नी । जिसके गर्भ से रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण उत्पन्न हुए थे; (अव्य.) समीप, पास ।

निकषात्मज-(सं. पुं.) राक्षस ।

निकषोपल-(सं. पुं.) निकष, कसौटी ।

निकषना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'निकलना' ।

निकाई-(हिं. पुं.) देखें 'निकाय'; (हिं. स्त्री.) अच्छापन, सुन्दरता ।

निकाज-(हिं. वि.) निकम्मा, बेकाम ।

निकास-(सं. वि.) यथेष्ट, पर्याप्त, बहुत ।

निकास-(हिं. वि.) निकम्मा, बुरा; (अव्य.) व्यर्थ, निष्प्रयोजन ।

निकाय-(सं. पुं.) समूह, झुंड, ढेर, राशि, परमात्मा, निवासस्थान, लक्ष्य ।

निकार-(सं. पुं.) अपकार, अपमान, मानहानि, अनादर, तिरस्कार, धिक्कार; (हिं. पुं.) निकालने का काम, निकास, ऊख का रस पकाने का बड़ा कड़ाहा ।

निकारण-(सं. पुं.) मारण, बच ।

निकाल-(हिं. पुं.) निकास, मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।

निकालना-(हिं. क्रि. स.) भीतर से बाहर करना, उपस्थित करना, निश्चित करना, ठहराना, प्रकट करना, रोलना, घटाना कम करना, दूर करना, निर्वाह करना, आविष्कार करना, नई से बेल-

वृटे बनाना, ढोड़ा, बेल आदि को गाड़ी में चलने की शिक्षा देना, ढूँढ़कर पता लगाना, अपनी वस्तु दूसरे के पास ले जाना, हटाना, आरंभ करना, छोड़ना, चलाना, ले जाना, सामने लाना, अतिक्रमण करना, मिली हुई वस्तुओं को अलगाना, प्रकाशित करना, सिद्ध करना, फैलाना, संकट से छुटकारा देना, बेचना, खपाना, नौकरी से हटाना, अलग करना ।

निकाला-(हिं. पुं.) निकालने का काम, वहिष्कार, किसी स्थान से निकाले जाने का दण्ड ।

निकाश-(सं. पुं.) पास, समीप ।

निकास-(हिं. पुं.) निकलने या निकालने की क्रिया या भाव, निर्वाह की रीति, आय, दर्रा, क्रम, द्वार, वह स्थान जिसमें से होकर कोई वस्तु निकले, खुला मैदान, मूल स्थान, संकट या कठिनाई से मुक्त होने की विधि, छुटकारे का उपाय, वंश का मूल, युक्ति ।

निकासना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'निकालना' ।

निकासपत्र-(हिं. पुं.) आय-व्यय तथा बचत के हिसाब की वही ।

निकासी-(हिं. स्त्री.) निकलने की क्रिया या भाव, विक्री, खपत, चुंगी, खपना, भरती, लदाई, प्राप्ति, आय, वह धन जो भस्वामी के पास सरकारी कर देने पर बचे ।

निकाह-(अ. पुं.) मुसलमानी धार्मिक पद्धति के अनुसार सम्पन्न विवाह ।

निकियाना-(हिं. क्रि. स.) नोचकर घञ्जी-घञ्जी अलग करना, चमड़े पर से पंख या रोयां नोचकर अलग करना ।

निकिल्विष-(सं. पुं.) पाप का अभाव ।

निकिष्ट-(हिं. वि.) देखें 'निकृष्ट' ।

निकुच-(सं. पुं.) लकुट, बड़हर ।

निकुचक-(सं. पुं.) एक प्राचीन परिमाण जो प्रायः आठ तोले के बराबर होता था ।

निकुचित-(सं. वि.) संकुचित, सिकुड़ा हुआ ।

निकुंज-(सं. पुं.) लतागूह, वृक्षों अथवा लताओं से घिरा हुआ भंडप ।

निकुंभ-(सं. पुं.) कुम्भकर्ण का एक पुत्र जिसको हनुमान ने मारा था, एक असुर का नाम, जमालगोटा, जल में उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का बेंत, गिव के एक अनुचर का नाम, कुमार कार्तिकेय का एक गण, एक विश्वदेव, प्रह्लाद के एक पुत्र का नाम, दन्ती वृक्ष ।

निकुंभित-(सं. पुं.) एक प्रकार का नाच ।

निकुंभिला-(सं. स्त्री.) लंता के पश्चिम की एक गुफा का नाम ।

निकुंभी-(सं. स्त्री.) कुम्भकर्ण की कन्या ।

निकुरंब-(सं. पुं.) समुदाय, समूह, झुंड ।

निकुही-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का पत्थी ।

निकुंतन-(सं. वि.) काटनेवाला; (पुं.) छेदन, खण्डन ।

निकृत-(सं. वि.) निकाला हुआ, तिरस्कार किया हुआ, लांछित ।

निकृतन-(सं. पुं.) गन्धक ।

निकृति-(सं. स्त्री.) तिरस्कार, अपकार, शठता, नीचता ।

निकृती-(सं. वि.) दुष्ट, शठ, नीच ।

निकृत्त-(सं. वि.) जड़ से काटा हुआ ।

निकृत्या-(सं. स्त्री.) दुष्टता, नीचता ।

निकृष्ट-(सं. वि.) अधम, नीच, तुच्छ; -ता-(स्त्री.) अधमता, नीचता; -त्व-(पुं.) निकृष्टता ।

निकेत-(सं. पुं.) घर, मकान ।

निकेतन-(सं. पुं.) गृह, घर, प्याज, जल, बेंत

निकोचन-(सं. पुं.) संकुचन, सिकुड़न ।

निकोसना-(हिं. क्रि. अ.) दांत पीसना, कटकटाना ।

निकौनी-(हिं. स्त्री.) निराई का काम या गुल्क ।

निक्रमण-(सं. पुं.) स्थान ।

निकोड़-(सं. पुं.) कौतुक, तमाशा ।

निकवण, निक्वाण-(सं. पुं.) बीन की शनकार, शब्द ।

निकषण-(सं. पुं.) चुम्बन की क्रिया ।

निक्षा-(सं. स्त्री.) जूँ का अंडा, लीन ।

निक्षिप्त-(सं. वि.) त्यक्त, छोड़ा हुआ, रखा हुआ, धरोहर रखा हुआ ।

निक्षुभा-(सं. स्त्री.) सूर्य की पत्नी का नाम ।

निक्षेप-(सं. पुं.) फेंकने की क्रिया या भाव, धरोहर, याती, पोंछने की क्रिया या भाव ।

निक्षेपक-(सं. पुं.) फेंकनेवाला, त्यागनवाला ।

निक्षेपण-(सं. पुं.) त्यागना, फेंकना, छोड़ना, डालना, चलाना ।

निक्षेपी-(हिं. वि.) फेंकनेवाला, छोड़नेवाला, धरोहर रखनेवाला ।

निक्षेप्य-(सं. वि.) छोड़ने या फेंकने योग्य ।

निखंग-(हिं. पुं.) देखें 'निपंग' ।

निखंगी-(हिं. वि.) देखें 'निपंगी' ।

निखंड-(हिं. वि.) ठीक मध्य या बीच का, सटीक ।

निखट्टर-(हिं. वि.) निष्ठर, निर्दय, कठोर चित्त का ।

निखट्ट-(हिं. वि.) जो कोई काम-काज न करता हो, बेकार, उधर-धर घूमनेवाला, आलसी, निक्म्मा ।

निखनन-(सं. पुं.) मनना, पीसना, गड़ना ।

निखरना—(हि. क्रि. अ.) स्वच्छ होना, निर्मल होना, धुलकर निर्मल होना ।
 निखरवाना—(हि.क्रि.स.) धुलवाना, स्वच्छ कराना ।
 निखरी—(हि. स्त्री.) घी में पकाया हुआ भोजन-द्रव्य ।
 निखर्व—(सं. पुं.) वामन, बीना ।
 निखर्वट—(सं.पु.) रावण की सेना का एक राक्षस ।
 निखर्वल—(हि.अव्य.) विलकुल, सब, और कुछ जेप नहीं ।
 निखात—(सं.वि.) रखा हुआ, गाड़ा हुआ ।
 निखाद—(हि. पुं.) देखें 'निषाद' ।
 निखार—(हि. पुं.) निर्मलता, स्वच्छता, सफाई, शृंगार, सजावट ।
 निखारना—(हि. क्रि. स.) स्वच्छ करना, माँजना, पवित्र करना, पापरहित करना ।
 निखारा—(हि.पुं.) गुड़ बनाने का कड़ाहा ।
 निखालिस—(हि. वि.) विशुद्ध, जिसमें किसी अन्य वस्तु की मिलावट न हो ।
 निखिल—(सं. वि.) समग्र, सम्पूर्ण, सब ।
 निखुटना—(हि. क्रि. अ.) घटना, समाप्त होना ।
 निखेध—(हि. पुं.) देखें 'निषेध' ।
 निखेधना—(हि. क्रि. स.) मना करना ।
 निखोट—(हि.वि.) जिसमें कोई दोष न हो, निर्दोष, स्पष्ट, खुला हुआ, स्वच्छ; (अव्य.) बिना संकोच के, वेधड़क, खुल्लमखुल्ला ।
 निखोड़ा—(हि. वि.) कठोर-हृदय, निर्दय ।
 निखोड़ना—(हि. क्रि. स.) नख से नोचना या उखाड़ना ।
 निखंद—(हि. पुं.) रक्तशोधन करने की एक जड़ी ।
 निखंदना—(हि. क्रि. स.) रूई से मरी हुई गद्दी आदि तागना ।
 निखंध—(हि.वि.) देखें 'निर्गंध', गंधहीन ।
 निखंड—(सं. पुं.) हाथी के पैर में बाँधने की लोहे की सिकड़ी, आँदू, वेड़ी ।
 निखंडन—(सं.पुं.) सिकड़ी से बाँधने का काम ।
 निखंडित—(सं. वि.) सिकड़ी से बाँधा हुआ ।
 निखण—(सं.पुं.) होम से निकलनेवाला धुआँ ।
 निखद—(सं. पुं.) भाषण, कथन, ऊँचे स्वर से किया जानेवाला जप ।
 निखदित—(सं. वि.) भाषित, कहा हुआ ।
 निखम—(सं. पुं.) वाणिज्य, व्यापार, वेद, हाट, मेला, पथ, मार्ग, निश्चय ।
 निखमन—(सं.पुं.) न्याय-शास्त्र में अनुमान के पाँच अवयवों में से एक, हेतु, उदाहरण, उपनय के उपरान्त प्रतिज्ञा को करने के लिये उसका फिर से कथन,

पाँचों अवयवों के नाम इस प्रकार हैं— यहाँ अग्नि है (प्रतिज्ञा), क्योंकि यहाँ धुआँ है (हेतु); जहाँ धुआँ रहता है वहाँ अग्नि रहती है, जैसे—रसोईघर में (उदाहरण), यहाँ धुआँ है (उपनय); अतएव, यहाँ अग्नि है (निगमन) ।
 निगमवासी—(सं. पुं.) विष्णु, नारायण ।
 निगमागम—(सं. पुं.) वेद और शास्त्र ।
 निगामी—(सं. पुं.) वेद जाननेवाला ।
 निगर—(सं. पुं.) भोजन; (हि. वि.) सब; (पु.) देखें 'निकर' ।
 निगरण—(सं. पुं.) भोजन, भक्षण, ग्रीवा, गला ।
 निगरा—(हि.वि.) जिसमें जल न मिला हो ।
 निगराना—(हि. क्रि. स.) निर्णय करना, निबटाना, अलग करना, स्पष्ट करना ।
 निगरानी—(फा.स्त्री.) निरीक्षण, देखरेख ।
 निगरह—(हि.वि.) हलका, जो भारी न हो ।
 निगलना—(हि.क्रि.स.) गले के नीचे उतारना, घोंट जाना, गटक जाना, खा जाना, लीलना, किसी का धन पचा जाना ।
 निगहवान—(फा. पुं.) रक्षक, प्रतिपालक ।
 निगहवानी—(फा.स्त्री.) रक्षा, प्रतिपालन ।
 निगाद—(सं. पुं.) भाषण, कथन ।
 निगादी—(सं. पुं.) बोलनेवाला, वक्ता ।
 निगार—(सं. पुं.) भक्षण, भोजन ।
 निगाल—(सं. पुं.) भोजन, घोंटें का गला ।
 निगालिका—(सं. स्त्री.) आठ अक्षरों का एक वर्णवृत्त जिसको प्रमाणिका या नगस्वरूपिणी भी कहते हैं ।
 निगाली—(हि.स्त्री.) हुक्के की नली जिसको मुँह में रखकर धुआँ खींचा जाता है ।
 निगाह—(फा. स्त्री.) दृष्टि, नजर, देखने की शक्ति या क्रिया, कृपा-दृष्टि, प्रतिपालन, चौकसी ।
 निगिभ—(हि. वि.) अत्यन्त गोपनीय, जिसका बहुत लोम हो, अत्यन्त प्रिय ।
 निगु—(सं.पुं.) मन, अन्तःकरण, भ्रम, मूल ।
 निगुण—(हि. वि.) देखें 'निर्गुण' ।
 निगुनी—(हि. वि.) गुणरहित, जो गुणी न हो ।
 निगुरा—(हि. वि.) जिसने गुरु से दीक्षा न ली हो ।
 निगूढ़—(सं. वि.) गुप्त, छिपा हुआ ।
 निगूढ़ार्थ—(सं. वि.) जिसका अर्थ छिपा हुआ हो, जो स्पष्ट न हो ।
 निगूहक—(सं. वि.) छिपानेवाला ।
 निगूहन—(सं. पुं.) गोपन, छिपाव ।
 निगूहनोय—(सं. वि.) गोपनीय, छिपाने योग्य ।

निगूहीत—(सं. वि.) आक्रमित, जिस पर धावा किया गया हो, पीड़ित, दण्डित, पकड़ा हुआ, घेरा हुआ, जिस पर शासन किया गया हो, जो वज में लाया गया हो ।
 निगोड़ा—(हि. वि.) जिसका कोई रक्षक न हो, जिसके आगे-पीछे कोई न हो, द्रुष्ट, नीच ।
 निग्रथन—(सं. पुं.) मारण, वध ।
 निग्रह—(सं. पुं.) अवरोध, रुकावट, मारण, वध, चिकित्सा, विष्णु, महादेव, सीमा, हृद, दण्ड, भर्त्सना, डाँट-फटकार, बन्धन, पीड़न ।
 निग्रहण—(सं. पुं.) दण्ड देने का कार्य, रोकने का काम ।
 निग्रहना—(हि. क्रि. स.) रोकना, थामना, पकड़ना ।
 निग्रहस्थान—(सं. पुं.) न्यायदर्शन के सोलह पदार्थों में से एक, वाद-विवाद अथवा शास्त्रार्थ में वह स्थान जहाँ किसी पक्ष द्वारा विप्रतिपत्ति (उलटा-पुलटा ज्ञान) या अप्रतिपत्ति (अज्ञान) की बात कही जाती है तो उसको निग्रहस्थान कहते हैं, (प्रतिज्ञा-हानि, प्रतिज्ञान्तर आदि बाईस निग्रहस्थान न्याय-शास्त्र में माने गये हैं) ।
 निग्रही—(हि. वि.) रोकनेवाला, दबानेवाला, दण्ड देनेवाला ।
 निग्रहीतव्य—(सं.वि.) जो दण्ड देने योग्य हो ।
 निग्राह—(सं. पुं.) आक्रोश, शाप ।
 निग्राह्य—(सं. वि.) दण्डनीय, ग्रहण करने योग्य ।
 निघंट—(सं. पुं.) निघंटु, सूचीपत्र ।
 निघंटिका—(सं.स्त्री.) एक प्रकार का कन्द ।
 निघंटु—(सं. पुं.) नाम-संग्रह, वैदिक शब्दों की सूची, वह कोष जिसमें केवल एकार्थ शब्द लिखे होते हैं ।
 निघटना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'घटना' ।
 निघरघट—(हि. वि.) जिसको कहीं रहने का ठिकाना न हो, निर्लज्ज, जो धूम-फिरकर वहीं आवे जहाँ से वह दुतकारा गया हो ।
 निघरा—(हि.वि.) जिसके घर-बार न हो ।
 निघर्ष, निघर्षण—(सं.पुं.) घिसना, रगड़ ।
 निघस—(सं. पुं.) आहार, भोजन ।
 निघात—(सं. पुं.) प्रहार, चोट ।
 निघाति—(सं. स्त्री.) लोहार की निहाई ।
 निघाती—(सं. वि.) आघात करनेवाला, मारनेवाला ।
 निघृष्व—(सं.पुं.) खुर, वायु, मार्ग, सुअर ।
 निघ्न—(सं. वि.) जिसको चोट लगी हो,

घायल, निर्भर, अचीन, (गणित में) गुणा किया हुआ ।
 निचमन—(सं.पुं.) थोड़ा-थोड़ा करके पीना ।
 निचय—(सं.पुं.) निश्चय, समूह, संचय ।
 निचल—(हिं. वि.) देखें 'निश्चल' ।
 निचला—(हिं. वि.) नीचे का, नीचेवाला, शान्त, अचल, अचपल ।
 निचाई—(हिं. स्त्री.) नीचापन, नीचा होने का भाव, नीचे की ओर का विस्तार, नीचता, ओछापन ।
 निचान—(हिं.स्त्री.) नीचापन, ढालुआँपन ।
 निचाय—(सं.पुं.) धान आदि का ढेर ।
 निंचित—(हिं. वि.) चिन्तारहित ।
 निचिकी—(सं. स्त्री.) अच्छी गाय ।
 निचित—(सं. वि.) व्याप्त, पूरित, रचित, निर्मित ।
 निचिर—(सं.पुं.) चिर काल ।
 निचुंकण—(सं.पुं.) गरज, घड़घड़ाहट ।
 निचुड़ना—(हिं. क्रि. अ.) रस से मरी हुई किसी वस्तु को दवाने, ऐंठने आदि से उसमें से रस निकलकर गिर जाना, गरना, पानी टपकना या चूना, रसहीन होना, शरीर का बल निकल जाना, शरीर का दुर्बल होना ।
 निचेता—(सं.वि.) विविधवस्तुओं का संचय करनेवाला ।
 निचेय—(सं. वि.) संग्रह करने योग्य ।
 निचेर—(सं.पुं.) सर्वदा श्वर-उवर धूमने-वाला मनुष्य ।
 निचोड़—(हिं.पुं.) निचोड़ने से निकला हुआ जल, रस आदि सार वस्तु, सत्व, मुख्य तात्पर्य, सारांश ।
 निचोड़ना—(हिं. क्रि.सं.) गीली या रस से मरी हुई वस्तु को दवाकर या ऐंठकर इसमें का रस या पानी निकालना, गारना, किसी वस्तु का सार-भाग अलग करना, सर्वस्व हरण करना, सब कुछ ले लेना ।
 निचोना—(हिं. क्रि.सं.) देखें 'निचोड़ना' ।
 निचोरना—(हिं.क्रि.सं.) देखें 'निचोड़ना' ।
 निचोल, निचोलक—(सं.पुं.) शरीर को ऊपर से ढाँपने का वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, स्त्रियों के घूँघट का वस्त्र, लहंगा, घाघरा ।
 निचोवना—(हिं.क्रि.सं.) देखें 'निचोड़ना' ।
 निचोहां—(हिं. वि.) नीचे की ओर किया हुआ या झुका हुआ ।
 निचोहं—(हिं. अव्य.) नीचे की ओर ।
 निछक्का—(हिं.पुं.) निर्जन स्थान जहाँ कोई देखने वाला न हो, एकांत ।

निछत्र—(हिं.वि.) छत्रहीन, बिना छत्र का, बिना राजचिह्न का, छत्रियों से रहित ।
 निछनियाँ—(हिं. अव्य.) देखें 'निछान' ।
 निछल—(हिं. वि.) बिना छल-कपट का ।
 निछला—(हिं. वि.) बिना मिलावट का ।
 निछान—(हिं. वि.) विशुद्ध, बिना मिलावट का, केवल; (अव्य.) एकदम ।
 निछावर—(हिं. स्त्री.) एक उपचार जिसमें किसी की रखा के निमित्त कोई वस्तु उसके संपूर्ण शरीर के ऊपर से घुमाकर फेंक दी जाती है अथवा किसी को दान दी जाती है, उत्सर्ग, उतारा, वह द्रव्य या वस्तु जो इस प्रकार उतारी जाती है, नेग; (मुहा.) किसी व्यक्ति पर निछावर होना—किसी के लिये प्राण देने को तैयार होना ।
 निछोह, निछोही—(हिं. वि.) निर्दयी, निष्ठुर, जिसमें प्रेम या छोह न हो ।
 निज—(सं. वि.) स्वकीय, अपना, जो पराया न हो, प्रवान, मुख्य, वास्तविक, यथार्थ, सच्चा; (अव्य.) ठीक-ठीक, निश्चयपूर्वक; -का-अपना; -करके-निश्चित रूप से; -का-अपना खास, व्यक्तिगत ।
 निजिकाना—(हिं. क्रि. अ.) समीप आना, निकट पहुँचना ।
 निजकारी—(हिं.स्त्री.) बँटाई की फसल ।
 निजकृत—(सं.वि.) स्वयं किया हुआ ।
 निजघनी—(सं. वि.) जो आत्म-हत्या करना चाहता हो ।
 निजघृति—(सं. वि.) बुद्धिमान ।
 निजन—(हिं. वि.) देखें 'निर्जन' ।
 निजाम—(अ. पुं.) व्यवस्था, इंतजाम, हैदरावाद के पुराने शासकों की पदवी ।
 निजि—(सं. वि.) शुद्धियुक्त, जो अशुद्धि-रहित हो ।
 निजी—(हिं. वि.) स्वकीय, अपना, निज का ।
 निजुर—(सं. स्त्री.) हत्या, नाश ।
 निजू—(हिं. वि.) निज का, अपना ।
 निजोर—(हिं. वि.) बलहीन, निर्बल ।
 निजरना—(हिं.क्रि.अ.) लगा या अटका न रहना, झड़ जाना, अपने को निर्दोष प्रमाणित करना, दोष से मुक्त बनना, तत्त्व या सार न रह जाना ।
 निजाटना—(हिं.क्रि.सं.) झपटना, खींचकर छीनना ।
 निजाना—(हिं. क्रि. सं.) छिपकर देखना, ताकझाँक करना ।
 निटर—(हिं. वि.) जो उपजाऊ न रह गया हो, जिसमें कुछ दम न हो ।

निटल—(सं.पुं.) मस्तक, कपाल ।
 निटलाक्ष—(सं.पं.) शिव, महादेव ।
 निटोल—(हिं.पुं.) टोला, मुहल्ला, वस्ती, पुरा ।
 निठल्ला, निठल्लू—(हिं.वि.) जिसके पास कोई काम-बंधा न हो, बेकार, व्यवसाय-रहित ।
 निठाला—(हिं.पुं.) ऐसा समय जब कोई काम-बंधा न हो, जीविका का अभाव, वह समय जब किसी प्रकार की आय न हो ।
 निठुर—(हिं. वि.) निष्ठुर, क्रूर, निर्दय, जिसको दूसरे के कष्ट या पीड़ा का अनुभव न हो; -ई—(स्त्री.) देखें 'निठुरता'; -ता—(स्त्री.) हृदय की कठोरता, निर्दयता, क्रूरता ।
 निठुराई—(हिं.स्त्री.) निष्ठुरता, निर्दयता, क्रूरता ।
 निठुराव—(हिं.पुं.) निठुराई ।
 निठोर—(हिं.पुं.) बुरी जगह, कुठाँव, बुरी अवस्था ।
 निडर—(हिं. वि.) निर्भय, साहसी, घृष्ट, डीठ; -पन, -पना—(पुं.) निर्भयता, साहस ।
 निडोत—(सं.पुं.) पक्षियों के उड़ने की एक गति ।
 निडें—(हिं. अव्य.) निकट, समीप, पास ।
 निडाल—(हिं. वि.) अशक्त, जिधिल, उत्साहहीन, मरा हुआ ।
 निडिल—(हिं. वि.) जो ढीला न हो, कसा हुआ ।
 निण्य—(सं. वि.) अन्तर्निहित ।
 नितंत—(हिं. अव्य.) देखें 'नितांत' ।
 नितंब—(सं.पुं.) स्त्री की कमर के पीछे का उमड़ा हुआ भाग, चूतड़, कन्धा, किनारा, पहाड़ का ढालुआँ भाग; -देश—(पुं.) कमर का पिछला भाग ।
 नितंबो—(सं. वि.) नितंबयुक्त ।
 नितंबिनी—(सं. स्त्री.) सुन्दर नितंब-वाली स्त्री; (वि.) सुन्दर नितम्बवाली ।
 नित—(हिं. अव्य.) सर्वदा, नित्य, प्रति-दिन; -नित—(अव्य.) प्रतिदिन; -नया—(वि.) सर्वदा नया रहनेवाला ।
 नितराम्—(सं. अव्य.) सर्वदा ।
 नितल—(सं.पुं.) सात पातालों में में एक का नाम ।
 नितांत—(सं.वि.) अतिशय, बहुत अधिक, सर्वथा, निरा ।
 निति—(हिं. अव्य.) नित, प्रतिदिन ।
 नित्य—(सं. वि.) सतत, प्रतिदिन का, सब

दिन रहनेवाला, शाश्वत, जिसकी परम्परा कभी न टूटे, त्रिकालव्यापी, अत्रिनाशी; (पुं.) समुद्र, सागर; (अव्य.) प्रतिदिन, हर रोज, सर्वदा; -कर्म-(पुं.) वह धर्म या प्रकृति संबंधी कार्य जिसका प्रतिदिन करना आवश्यक तथा नियत है; -क्रिया-(स्त्री.) नित्य-कर्म, प्रतिदिन करने का कार्य, यथा-स्नान, सन्ध्या आदि; -ग-(पुं.) आयुष्य; -गति-(पुं.) वायु, हवा; -ता-(स्त्री.) नित्य होने का भाव; -त्व-(पुं.) नित्यता; -दा-(अव्य.) सर्वदा; -दान-(पुं.) वह दान जो प्रतिदिन किया जाता है; -नतं-(पुं.) शिव, महादेव; -नियम-(पुं.) प्रतिदिन के करने का निश्चित व्यापार, प्रतिदिन का नियम; -नैमित्तिक-(पुं.) पार्वण-श्राद्ध आदि कार्य; -प्रति-(अव्य.) प्रतिदिन; -प्रलय-(पुं.) सुषुप्ति की अवस्था जब नींद आती है और किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता; -मय-(वि.) अनन्त; -मुक्त-(पुं.) परमात्मा; -यज्ञ-(पुं.) अग्निहोत्र आदि प्रतिदिन करने का यज्ञ; -युक्त-(वि.) जो सर्वदा काम में लगा रहता हो; -यौवन-(वि., पुं.) स्थिर यौवन, जिसकी युवावस्था बहुत दिनों तक बनी रहे; -वैकुण्ठ-(पुं.) विष्णु का निवास विशेष; -शः-(अव्य.) प्रतिदिन, सर्वदा; -सम-(पुं.) न्याय-शास्त्र के चौबीस अयुक्त खण्डनों में से एक जो इस प्रकार किया जाता है कि-अनित्य वस्तुओं में भी अनित्यता नित्य है, अतः धर्म के नित्य होने से धर्मा भी नित्य हुआ; -समास-(पुं.) 'कु' शब्द तथा 'आदि' शब्द के साथ जो समास होता है वह नित्य समास कहलाता है; -स्तोत्र-(वि.) सर्वदा प्रशंसित; (पुं.) स्तोत्र जिसका सर्वदा पाठ किया जाय; -होम-(पुं.) वह हवन जो द्विजों को प्रतिदिन करना कर्तव्य है।

नित्या-(सं. स्त्री.) देवी की एक शक्ति, पार्वती, मनसा देवी।

नित्यानन्द-(सं. पुं.) वह जो सर्वदा आनन्द में रहे।

नित्यानूबद्ध-(सं. वि.) रक्षा करनेवाला, बचानेवाला।

नियंभ-(हिं. पुं.) स्तम्भ, खंभा।

नित्यरत्ना-(हिं. क्रि. अ.) जल आदि की हलकन बंद होना और इसमें धुली हुई मेल आदि का नीचे बैठ जाना, धुली हुई वस्तु के नीचे बैठ जाने से जल आदि का

स्वच्छ हो जाना।

नित्यार-(हिं. पुं.) पानी के स्थिर होने से उसके तल में बँठी हुई वस्तु, स्वच्छ जल जो धुली हुई वस्तु के तल में बैठ जाने से नित्यर जाता है।

नित्यारना, नित्यारलना-(हिं. क्रि. स.) धुली हुई वस्तु का नित्यार बैठने देकर जल को स्वच्छ करना, पानी छानना।

निन्द-(सं. पुं.) विष; (वि.) निन्दा करनेवाला।

निन्दई-(हिं. वि.) देखें 'निन्दय'।

निन्दरना-(हिं. क्रि. स.) अपमान करना, निरादर करना, तिरस्कार करना, हराना।

निदर्शक-(सं. वि.) निदर्शन करनेवाला।

निदर्शन-(सं. पुं.) प्रकाशित करने या दिखलाने का काम, उदाहरण, दृष्टान्त।

निदर्शना-(सं. स्त्री.) वह अर्थालंकार जिसमें कोई बात किसी दूसरी बात को सिद्ध करके दिखलाई जाती है, निदर्शना अलंकार वहाँ होता है जहाँ दोनों बातों में जमीन-आसमान का अंतर होता है; जैसे-सूर्य और दीप में।

निदर्शन-(हिं. पुं.) देखें 'निदर्शन'।

निदहना-(हिं. क्रि. स.) जलाना।

निदाघ-(सं. पुं.) ग्रीष्म-काल, गरमी, उष्णता, ताप, घाम, धूप; -कर-(पुं.) सूर्य, मदार का वृक्ष; -काल-(पुं.) ग्रीष्म ऋतु।

निदान-(सं. पुं.) रोग की पहिचान, अन्त, तप के फल की इच्छा, आदिकारण, कारण का अर्थ, बुद्धि; (अव्य.) अन्त में, (वि.) अन्तिम श्रेणी का, जो बहुत गया-बीता हो।

निदारुण-(सं. वि.) कठिन, भयानक, निर्दय, कठोर, दुःसह।

निदिग्ध-(सं. वि.) लेप किया हुआ।

निदिग्धा, निदिग्धिका-(सं. स्त्री.) इलायची, भटकटैया।

निदिध्यासन-(सं. पुं.) वारंवार स्मरण, वार-वार स्मरण करना।

निदेश-(सं. पुं.) शासन, आज्ञा, कथन, भाजन, पात्र, सामीप्य, पास, पृथ्वी।

निदेशी-(सं. वि.) आज्ञा देनेवाला।

निदेश-(हिं. पुं.) देखें 'निदेश'।

निदोष-(हिं. वि.) देखें 'निदोष'।

निद्धि-(हिं. स्त्री.) देखें 'निधि'।

निद्र-(सं. पुं.) एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र।

निद्रा-(सं. स्त्री.) स्वप्न, नींद, सुषुप्ति, मन की वह स्थिति जिसमें सभी मनोवृत्तियाँ लीन हो जाती हैं तथा जब अज्ञान का अवलम्बन कर चेतना

अचेत रहती है; -कर-(वि.) निद्रा-कारक, सुलानेवाला; -कारी-(वि.) निद्राकर, सुलानेवाला; -काल-(पुं.) शयन करने (सोने) का समय; -कुल-(वि.) निद्रा से पीड़ित; -गत-(वि.) निद्रित, जो सो गया हो; -गौरव-(पुं.) बहुत नींद आना; -ग्रस्त-(वि.) निद्राकुल, निद्रालु; -जनक-(वि.) सुलानेवाला; -दरिद्र-(पुं.) नींद न आना; -भंग-(पुं.) नींद टूटना; -योग-(पुं.) निद्रा और गहरी चिन्ता; -विमुख-(वि.) अनिद्र, जागरूक; -वृक्ष-(पुं.) अन्धकार, अंधेरा; -शाला-(स्त्री.) सोने का घर; -शील-(वि.) निद्रालु, सोनेवाला।

निद्राभाव-(सं. पुं.) निद्रा का अभाव, नींद न आना।

निद्रायमाण-(सं. वि.) जो नींद में हो, सोता हुआ।

निद्रालु-(सं. वि.) निद्राशील, सोनेवाला; (स्त्री.) वनतुलसी।

निद्रित-(सं. वि.) निद्रागत, सोया हुआ।

निद्रोत्थित-(सं. वि.) जो सोकर उठा हो।

निघड़क-(हिं. अव्य.) बिना किसी रुकावट के, बिना संकोच के, निःशंक, बिना भय या हिचक के।

निघन-(सं. पुं.) मरण, नाश, विष्णु, कुल, कुल का अधिपति; (वि.) घनहीन, दरिद्र; -क्रिया-(स्त्री.) अन्त्यष्टि-क्रिया; -ता-(स्त्री.) दरिद्रता, कंगाली; -पति-(पुं.) प्रलयकर्ता, शिव; -वत्-(वि.) मरण-तुल्य।

निघनी-(हिं. वि.) घनहीन, दरिद्र।

निघमन-(सं. पुं.) नीम का पेड़।

निघातव्य-(सं. वि.) स्थापन करने योग्य।

निघान-(सं. पुं.) आश्रय, आधार, निधि, स्थापन, लयस्थान, वह स्थान जहाँ सभी वस्तुएँ लीन होती हैं।

निधि-(सं. पुं.) समुद्र, विष्णु, जीवक नामक औषधि, आधार, शिव, महादेव, नौ की संख्या, कुवेर के नौ रत्न, यथा-पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील और खर्व, गड़ा हुआ धन; -गोप-(पुं.) वह जो वेदवेदांग पढ़कर गुरुकुल में गया हो; -नाथ-(पुं.) निधिपति, कुवेर; -पति-(पुं.) वनेश्वर, कुवेर; -पा-(पुं.) यक्षों का अधिपति; -पाल-(पुं.) निधिपति, कुवेर; -मान्-(वि.) वनाध्य, जिसके पास धन हो।

निघेय—(सं. वि.) स्थापन करने योग्य ।
 निघ्यान—(सं. पुं.) दर्शन, देखना ।
 निनद—(सं.पुं.) निनाद, शब्द, घरघराहट ।
 निनदित—(सं. वि.) देखें 'निनादित' ।
 निनदी—(सं. वि.) देखें 'निनादी' ।
 निनय—(सं. स्त्री.) नम्रता ।
 निनरा—(हिं. वि.) न्यारा, अलग, दूर ।
 निनाद—(सं. पुं.) शब्द, आवाज ।
 निनादित—(सं. वि.) ध्वनित, शब्द किया हुआ ।
 निनादी—(सं. वि.) शब्द करनेवाला ।
 निनान—(हिं. वि.) घोर, निकृष्ट, बुरा ; (अव्य.) विलकुल, एकदम, अन्त में ।
 निनारा—(हिं. वि.) मित्र, न्यारा, अलग, हटा हुआ, दूर ।
 निनावाँ—(हिं. पुं.) महीन लाल दाने जो जीम और मसूढ़े पर निकल आते हैं ।
 निनावी—(हिं. स्त्री.) वह जिसका नाम लेना अशुभ माना जाता है, डाइन, चुड़ैल ।
 निनित्सु—(सं. पुं.) जो निन्दा न करने का इच्छुक हो ।
 निनीपा—(सं. स्त्री.) एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने की अभिलाषा ।
 निनीरा—(हिं. पुं.) नाना-नानी का घर ।
 निन्यानवे—(हिं. वि.) एक कम सी की संख्या का ; (पुं.) नव्वे और नौ की संख्या, ९९ ।
 निन्यारा—(हिं. वि.) देखें 'न्यारा' ।
 निपंग—(हिं. वि.) जिसके हाय-पैर बेकाम हों, अपाहिज ।
 निप—(सं. पुं.) कलश, कलसा, कदंब का पेड़ ।
 निपजना—(हिं. क्रि. अ.) उपजना, उगना, उत्पन्न होना, बढ़ना, बनना, पुष्ट होना ।
 निपजी—(हिं. स्त्री.) लाम, उपज ।
 निपट—(हिं. अव्य.) निरा, खाली, नितान्त, विलकुल, एकदम ।
 निपटना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'निवटना' ।
 निपटाना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'निवटाना' ।
 निपटारा—(हिं. पुं.) देखें 'निवटारा' ।
 निपटावा—(हिं. पुं.) देखें 'निवटावा' ।
 निपटेरा—(हिं. पुं.) देखें 'निवटेरा' ।
 निपठ—(सं. पुं.) पाठ, अध्ययन ।
 निपठित—(सं. वि.) अधिष्ठित, जो पढ़ा-लिखा न हो ।
 निपतन—(सं. पुं.) अयःपतन, गिराव ।
 निपतित—(सं. वि.) पतित, गिरा हुआ ।
 निपत्या—(सं. स्त्री.) युद्ध-भूमि, ऐसी भूमि जिस पर पैर फिसलता हो ।
 निपत्र—(हिं. वि.) पत्रहीन ।

निपलाश—(सं. वि.) जिसके पत्ते गिर गये हों ।
 निपात—(सं. पुं.) पतन, गिराव, नाश, मृत्यु, अयःपतन, विनाश, वह शब्द जो व्याकरण में दिये हुए नियमों के अनुसारा न बना हो ; (वि.) विना पत्तों का ।
 निपातन—(सं. पुं.) मारण, वध करने का काम, गिराने का काम ।
 निपातना—(हिं. क्रि. स.) गिराना, नष्ट करना, वध करना, मारकर गिराना, काटकर गिराना ।
 निपातनीय—(सं. वि.) वध के योग्य, गिराने योग्य ।
 निपातित—(सं. वि.) जो नीचे गिरा दिया गया हो, नष्ट किया हुआ ।
 निपाती—(सं. पुं.) शिव, महादेव ; (वि.) धातक, मारनेवाला, गिरानेवाला, फेंकनेवाला ।
 निपाद—(सं. पुं.) नीचा प्रदेश, नीची भूमि ।
 निपान—(सं. पुं.) तालाब, गड्ढा, दूब दूहने का पात्र ।
 निपीडक—(सं. वि.) पीड़ा देनेवाला, निचोड़नवाला, पेरनेवाला ।
 निपीड़न—(सं. पुं.) कष्ट देने का कार्य, पसेव निकालना, पेरकर निकालना, मलना, दलना ।
 निपीड़ना—(सं. स्त्री.) देखें 'निपीड़न' ; (हिं. क्रि. स.) कष्ट देना, पेरकर निकालना, मलना ।
 निपीड़ित—(सं. वि.) आक्रान्त, दबाया हुआ, पेरा हुआ ।
 निपीत—(सं. वि.) जो पिया गया हो ।
 निपीयमान—(सं. वि.) जो पिया जा रहा हो ।
 निपुड़ना—(हिं. क्रि. अ.) खुलना, उबरना ।
 निपुण—(सं. वि.) कार्य-कुशल, काम करने में दक्ष, विद्वान् ; (पुं.) चिकित्सक, वैद्य ; -ता—(स्त्री.) कुशलता ।
 निपुणार्ई—(हिं. स्त्री.) दक्षता ।
 निपुत्री—(हिं. वि.) निःसन्तान, निपूता ।
 निपुन—(हिं. वि.) देखें 'निपुण', दक्ष ; -ई—(स्त्री.) निपुणता, दक्षता ।
 निपुर—(सं. पुं.) लिंग-देह, सूक्ष्म शरीर ।
 निपूत, निपूता—(हिं. वि.) अपुत्र, जिसके सन्तान न हो ।
 निपूड़ना—(हिं. क्रि. म.) दाँत दिखाना ।
 निफन—(हिं. वि.) निष्पन्न, पूर्ण, पूरा ; (अव्य.) अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से ।
 निफरना—(हिं. क्रि. अ.) चुनकर उस पार से उस पार निकल जाना, उद्घाटित होना, प्रकट होना, मलना, स्वच्छ होना ।
 निफट—(हिं. वि.) देखें 'निफाल' ।

निफाक—(अ. पुं.) विरोध, ब्रौह, वैर, बिगाड़, अनयन ।
 निफारना—(हिं. क्रि. स.) इस पार से उस पार तक छेद करना, खोलना, स्पष्ट करना ।
 निफालन—(सं. पुं.) दर्शन, दृष्टि ।
 निफेन—(सं. पुं.) अहिफेन, अफीम ।
 निफोट—(हिं. वि.) स्पष्ट, स्वच्छ ।
 निबंध—(सं. पुं.) मूत्र रक्तने का रोग, करक, पुस्तक की टीका, बंधन, नीम का पेड़, वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो, लिखित प्रबंध, लेख ; (पुं.) गीत ; -दान—(पुं.) द्रव्य-समर्पण ।
 निबंधक—(सं. पुं.) निबन्धन करनेवाला अधिकारी, रजिस्ट्रार ।
 निबंधन—(सं. पुं.) हेतु, कारण, ग्रन्थि, गाँठ, बन्धन, नियम, व्यवस्था, ग्रन्थ, पुस्तक ।
 निबंधना—(सं. स्त्री.) बंधन, बँदी ।
 निबंधित—(सं. वि.) बद्ध, बँधा हुआ ।
 निबंधी—(सं. वि.) निबन्ध करनेवाला ।
 निवकौरी—(हिं. स्त्री.) नीम का फल या बीज ।
 निवटना—(हिं. क्रि. अ.) निर्णोत होना, निश्चित होना, चुकना, निवृत्त होना, छुट्टी पाना, समाप्त होना, पूरा होना, शौचादि से निवृत्त होना, अन्त होना ।
 निवटाना—(हिं. क्रि. स.) समाप्त करना, पूरा करना, भुगताना, चुकाना ।
 निवटाव—(हिं. पुं.) निवटाने का भाव या क्रिया, निर्णय ।
 निवटेरा—(हिं. पुं.) निवटाने का भाव या क्रिया, समाप्ति, छुट्टी, सगड़े का निर्णय, निश्चय ।
 निवड़ना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'निवटना' ।
 निवड़ा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बड़ा घड़ा ।
 निवद्ध—(सं. वि.) बद्ध, निरुद्ध, बँधा हुआ, रुका हुआ, गुया हुआ, बँधाया हुआ, जड़ा हुआ ; (हिं. पुं.) वह गीत जिसमें गाते समय ताल, स्वर आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है ।
 निवर—(हिं. वि.) देखें 'निबंध' ।
 निवरना—(हिं. क्रि. अ.) किसी बँदी हुई वस्तु का अलग होना, छटना, मुक्त होना, उद्धार होना, विलग होना, छटना, निर्णय होना, समाप्त होना, अचकाय पाना, अन्त होना, दूर होना, मुक्त होना, उद्घाटन दूर होना ।
 निवर्हण—(सं. पुं.) नष्ट होने की क्रिया या भाव, गरिण ।
 निवल—(हिं. वि.) देखें 'निबंध' ।
 निवलाई—(हिं. स्त्री.) दुर्बलता ।
 निवह—(हिं. पुं.) देखें 'निवह', मनुष्य, पुरुष ।

निवहना—(हि. क्रि. अ.) छूटकारा पाना, पार पाना, निर्वाह होना, बराबर चला चलना, व्यवहार होना, चरितार्थ होना, पूरा होना, किसी स्थिति, सम्बन्ध आदि का निरन्तर बना रहना ।
 निवहुर—(हि. पुं.) यमद्वार जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता ।
 निवहुरा—(हि. वि.) जो जाकर फिर न लौटे ।
 निवाह—(हि. पुं.) निवाहने की क्रिया या भाव, निर्वाह, गुजारे का ढंग, निरन्तर व्यवहार, चरितार्थ करने का कार्य, रहन, परंपरा की रक्षा, पूरा करने का काम ।
 निवाहक—(हि. वि.) निर्वाह करनेवाला ।
 निवाहना—(हि. क्रि. स.) निर्वाह करना, चरितार्थ करना, पूरा करना, निरन्तर साधन करना, पालन करना ।
 निविड़—(हि. वि.) घना, कठिन, गहरा ।
 निवुकना—(हि. क्रि. अ.) बंधन से मुक्त होना ।
 निवड़ना—(हि. क्रि. स.) बन्धन आदि से मुक्त करना, छोड़ना, दूर करना, अलग करना, विलगाना, अलगाना, निर्णय करना, उलझन दूर करना, भुगताना, पूरा करना ।
 निवेड़ा—(हि. पुं.) देखें 'निवेरा' ।
 निवेरना—(हि. क्रि. स.) उन्मुक्त करना, पूरा करना, निवटाना, दूर करना, हटाना, अलग करना, निर्णय करना, उलझन दूर करना, छँटना, चुनना, मिटाना ।
 निवेरा—(हि. पुं.) मुक्ति, छूटकारा, समाप्ति, भुगतान, चुनाव, सुलझने की क्रिया या भाव, उलझन दूर होना, निर्णय, निवटेरा ।
 निवेहना—(हि. क्रि. स.) देखें 'निवेरना' ।
 निवीरी, निवीली—(हि. स्त्री.) नीम का फल, निमकौड़ी ।
 निभ—(सं. वि.) सदृश, तुल्य; (पुं.) प्रकाश, प्रभाव ।
 निभना—(हि. क्रि. अ.) निकलना, वचना, पार पाना, छूटकारा पाना, निर्वाह होना, पालन होना, पूरा होना, सपरना, चरितार्थ होना, बराबर होता चलना ।
 निभरम—(हि. वि.) भ्रमरहित, जिसमें कोई गंका न हो; (अव्य.) वैषडक ।
 निभरमा—(हि. वि.) जिसका विश्वास उठ गया हो, जिसकी मर्यादा न रह गई हो ।
 निभरोस—(हि. वि.) निराश, हताश ।
 निभरोसी—(हि. वि.) निराश्रय, जिसको कोई भरोसा न रह गया हो ।
 निभाउ—(हि. वि.) भावरहित ।
 निभागा—(हि. वि.) अभागा, हतभाग्य ।
 निभाना—(हि. क्रि. म.) निर्वाह करना, संबव बनाये रखना, बराबर करते जाना,

चलाना, भुगताना, चरितार्थ करना, पालन करना, पूरा करना, वचन या वादे के अनुसार निरन्तर व्यवहार करना ।
 निभालन—(सं. पुं.) दर्शन, भेंट ।
 निभूत—(सं. वि.) भूत, बीता हुआ ।
 निभूयप—(सं. पुं.) विष्णु भगवान ।
 निभूत—(सं. वि.) घरा हुआ, रखा हुआ, पूर्ण, भरा हुआ, निश्चित, स्थिर, शान्त, अस्त होने के निकट, निर्जन, सूना, छिपा हुआ, बन्द किया हुआ, एकाग्र, विनीत, नम्र, निश्चल, अटल ।
 निभौना—(हि. क्रि. स.) नवाना, शुकाना, नीचे करना ।
 निभ्रांत—(हि. वि.) देखें 'निभ्रांत' ।
 निमंत्रक—(सं. पुं.) नेवता देनेवाला ।
 निमंत्रण—(सं. पुं.) किसी कार्य के लिये नियत समय पर आने के लिये अनुरोध करना, भोजन का बुलावा, न्योता; -पत्र—(पुं.) वह पत्र जिसके द्वारा किसी व्यक्ति से भोज, उत्सव आदि में सम्मिलित होने के लिये अनुरोध किया जाता है ।
 निमंत्रना—(हि. क्रि. स.) नेवता देना ।
 निमंत्रित—(सं. वि.) जिसको न्योता दिया गया हो ।
 निम—(सं. पुं.) शंकु, शलाका ।
 निमक—(हि. पु.) देखें 'नमक' ।
 निमकी—(हि. स्त्री.) नीवू का अचार, घी में तली हुई मैदे की नमकीन मोयनदार टिकिया ।
 निमकौड़ी—(हि. स्त्री.) नीम की फली या बीज, निवकौड़ी ।
 निमग्न—(सं. वि.) डूबा हुआ, मग्न ।
 निमज्जक—(सं. वि.) डुबकी या गोता लगानेवाला ।
 निमज्जन—(सं. पुं.) अवगाहन, पानी में डुबकी लगाकर किया जानेवाला स्नान ।
 निमज्जना—(हि. क्रि. श्र.) गोता लगाना, स्नान करना ।
 निमज्जित—(सं. वि.) डूबा हुआ, स्नान किया हुआ ।
 निमटना—(हि. क्रि. श्र.) देखें 'निवटना' ।
 निमटाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'निवटाना' ।
 निमटेरा—(हि. पुं.) देखें 'निवटेरा' ।
 निमता—(हि. वि.) जो उन्मत्त न हो ।
 निमन्यु—(सं. वि.) क्रोधरहित ।
 निमय—(सं. पुं.) विनिमय, बदला ।
 निमर्म—(सं. वि.) मर्मरहित ।
 निमान—(हि. पुं.) मूल्य, दाम, कीमत; (वि.) नीचा, ढालुआँ, विनीत, नम्र, सुशील ।

निमाना—(हि. वि.) नीचा, ढालुआँ, नम्र, विनीत ।
 निमि—(सं. पुं.) दत्तात्रेय के एक पुत्र का नाम, इक्ष्वाकु राजा के एक पुत्र का नाम, निमेष, आँख मिचकाना ।
 निमिख—(हि. पुं.) देखें 'निमिष' ।
 निमित्त—(सं. पुं.) चिह्न, लक्षण, हेतु, कारण, शकुन, उद्देश्य, फल की ओर लक्ष्य; -क—(वि.) जनित, उत्पन्न, किसी हेतु से होनेवाला; (पुं.) निमित्त-कारण, चुम्बन; -कारण—(पुं.) न्याय के अनुसार वह कारण जो किसी वस्तु को बनावे अथवा जिसकी सहायता से कोई वस्तु बने; -काल—(पुं.) निमेष, समय या काल; -कृत—(पुं.) काक, कौवा; -त्व—(पुं.) कारणत्व; -धर्म—(पुं.) निष्कृति, प्रायश्चित्त; -मात्र—(पुं.) हेतुमात्र, कारणमात्र; -विद्—(पुं.) दैवज्ञ, ज्योतिषी ।
 निमिती—(सं. वि.) कर्ता, प्रयोजक ।
 निमिरोज—(सं. पुं.) राजा जनक ।
 निमिष—(सं. पुं.) आँख मिचकाना, पलकों का गिरना, वह समय जो पलक के एक बार गिरने में लगता है, परमेश्वर ।
 निमिषित—(सं. वि.) पलक गिराया हुआ ।
 निमीलन—(सं. पुं.) निमेष, पलक गिरना ।
 निमीला—(सं. स्त्री.) आँखें मुंदना या झपकना, निद्रा, नींद ।
 निमीलिका—(सं. स्त्री.) आँख की झपक, छल ।
 निमीलित—(सं. वि.) बंद किया हुआ, ढपा हुआ, मरा हुआ ।
 निमुहूँ—(हि. वि.) न बोलनेवाला ।
 निमुंद—(हि. वि.) बन्द किया हुआ, मुंदा हुआ ।
 निमूल—(सं. वि.) मूलरहित ।
 निमिख—(हि. पुं.) देखें 'निमेष' ।
 निमेट—(हि. वि.) न मिटनेवाला ।
 निमेष—(सं. वि.) परिवर्तनीय, बदलने-योग्य ।
 निमेष—(सं. पुं.) पलक गिराने भर का समय, पल, क्षण, आँखें झपकना, एक यज्ञ का नाम ।
 निमेषक—(सं. पुं.) खद्योत, जुगनु ।
 निमेषकृत—(सं. स्त्री.) विद्युत्, विजली ।
 निमोना—(हि. पुं.) पिसे हुए हरे चने या मटर के दानों को भूनकर बनाया हुआ एक व्यंजन ।
 निमौनी—(हि. स्त्री.) वह दिन जब ऊख की उपज में से पहले-पहल कटाई होती है ।
 निम्न—(सं. वि.) नीचे का, नीचा; -ग—(वि.) अधोगामी, नीचे जानेवाला, -गत-

(वि.) जो नीचे की ओर गया हो; -गा, (स्त्री.) सरिता, नदी, दरया; -देश (पु.) तल भाग, निचला भाग; -लिखित- (वि.) नीचे लिखा हुआ।
 निम्नोक्त-(सं.वि.) नीचे कहा हुआ।
 नियंतव्य-(सं. वि.) नियमन करने योग्य।
 नियंता-(सं. पुं.) नियमनकर्ता, नियामक, नियमानुसार संचालन करनेवाला।
 नियंत्रण-(सं. पुं.) काबू या वश म रखना, संयम, प्रतिबंधन।
 नियंत्रित-(सं. वि.) नियंत्रण में रखा हुआ, संयमित।
 नियत-(सं. वि.) नियम द्वारा स्थिर किया हुआ, संयत, स्थिर, ठहराया हुआ, नियोजित, स्थापित, परिमित, ठीक किया हुआ, बंधा हुआ; (पुं.) गन्धक; -मानस-(वि.) जितेन्द्रिय, जिसने अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया हो।
 नियतात्मा-(सं.वि.) देखें 'नियतमानस'।
 नियताप्ति-(सं. स्त्री.) नाटक की पाँच अवस्थाओं में से एक जिसमें फल-प्राप्ति का निश्चय होता है।
 नियताहार-(सं. वि.) परिमित आहार करनेवाला, अल्पाहारी।
 नियति-(सं. स्त्री.) नियम, बंधेज, स्थिरता, भाग्य, अवश्य होनेवाली घटना, पूर्वकृत कर्म का निश्चित परिणाम, जड़ प्रकृति, एक देवी का नाम।
 नियतैन्द्रिय-(सं. वि.) जितेन्द्रिय, इन्द्रियों को अपने वश में करनेवाला।
 नियम-(सं. पुं.) प्रतिज्ञा, अंगीकार, परिमिति, रोक, विधि या निश्चय के अनुसार प्रतिवन्ध, निश्चय, व्यवस्था, पद्धति, परम्परा, क्रम, शासन, दवाव, संकल्प, योग का एक अंग, विष्णु, शिव, महादेव, एक अर्थालंकार जिसमें किसी बात का निदिष्ट स्थान पर होना स्थिर कर दिया जाय; -तंत्र-(वि.) नियम के अधीन; -न-(पुं.) नियमवद्ध करने का कार्य, बाँधना, शासन, निग्रह, नियंत्रण, दमन; -पत्र-(पुं.) प्रतिज्ञापत्र; -पर-(वि.) नियम के अधीन; -वद्ध-(वि.) नियमों के अनुकूल, नियमों से बंधा हुआ; -भंग-(पुं.) प्रतिज्ञा-भंग, नियम का उल्लंघन; -वत्-(अव्य.) नियम के अनुसार; -सेवा-(स्त्री.) नियमपूर्वक शिर्षक की उपायना।
 नियमित-(सं. वि.) नियमों से बंधा हुआ, ठीक नियमपूर्वक घटित होनेवाला,

नियमवद्ध, वाकायदा।
 नियमी-(सं. वि.) नियमों का पालन करनेवाला।
 नियम्य-(सं. वि.) नियमन करने योग्य।
 नियर-(हि. अव्य.) पास, समीप।
 नियराई-(हि. स्त्री.) सामीप्य, निकटता।
 नियराना-(हि. क्रि. अ.) पास होना, निकट आना।
 नियरे-(हि. अव्य.) समीप।
 नियराई-(हि. वि.) देखें 'न्यायी'।
 नियोज-(फा. पुं.) प्रार्थना, इच्छा, मेंट, आवश्यकता।
 नियोजन-(सं. पुं.) निपातन, नाश करने का कार्य।
 नियान-(सं. पुं.) गोशाला; (हि. पुं.) निदान, परिणाम, अन्त।
 नियाम-(सं. पुं.) नियम।
 नियामक-(सं. वि., पुं.) नियम या व्यवस्था करनेवाला, मारनेवाला; (पुं.) मल्लाह, माँझी।
 नियामत-(अ. स्त्री.) स्वादिष्ट भोजन, अलम्य पदार्थ, घन-द्रव्य।
 नियार-(हि. पुं.) जोहरी या सोनार की दुकान में का कूड़ा-करकट।
 नियारना-(हि. क्रि. स.) अलगाना।
 नियारा-(हि. वि.) पृथक्, अलग, न्यारा, जुदा; (पुं.) देखें 'नियार'।
 नियारिया-(हि. पुं.) सुनारों या जोहरियों की दुकान के कूड़ा-करकट में से माल निकालनेवाला, चतुर मनुष्य।
 नियारे-(हि. अव्य.) देखें 'न्यारे'।
 नियाव-(हि. पुं.) देखें 'न्याय'।
 नियुक्त-(सं. वि.) अधिकार किया हुआ, काम पर लगाया हुआ, प्रेरित, तत्पर किया हुआ, स्थिर किया हुआ।
 नियुक्ति-(सं. स्त्री.) नियुक्त होने का भाव।
 नियुत-(सं. पुं.) लख, एक लाख, दस लाख।
 नियुद्ध-(सं. पुं.) बाहु-युद्ध, मल्लयुद्ध।
 नियुक्तव्य-(सं. वि.) नियोजित करने योग्य।
 नियोज्यता-(सं. पुं.) नियोजित करनेवाला, किसी काम में लगानेवाला, नियोज करनेवाला।
 नियोग-(सं. पुं.) प्रेरणा, अयनानुसार नियुक्ति, अवधारण, आज्ञा, निश्चय, पुत्र उत्पन्न करने के लिये निःसन्तान बड़े माई की स्त्री के साथ मनीष; -कर्ता-(वि.) किसी कर्म में नियुक्त करनेवाला; -पत्र-(पुं.) वह पत्र जिसमें किसी की नियुक्ति का आदेश लिखा हो; -विधि-(पुं.)

किसी को किसी कार्य में नियुक्त करने की विधि।
 नियोगार्थ-(सं. पुं.) नियुक्त करने का उद्देश्य।
 नियोगी-(सं. वि.) जो नियुक्त किया गया हो, जो किसी स्त्री के साथ नियोग करे।
 नियोग्य-(सं. वि.) नियोग करने योग्य।
 नियोजक-(सं. पुं.) कार्य में नियुक्त करनेवाला।
 नियोजन-(सं. पुं.) नियोग, प्रेरणा, किसी काम में लगाना, उत्तजना, प्रवर्तन।
 नियोजित-(सं. वि.) नियुक्त किया हुआ।
 नियोज्य-(सं. वि.) जो नियुक्त करने के योग्य हो, नीकर।
 नियुद्धा-(सं. पुं.) युद्ध लड़नेवाला, पहलवान, मुर्गा।
 निरकार-(हि. वि.) देखें 'निराकार'।
 निरंकुश-(सं. वि.) बिना अंकुश या प्रतिवन्ध का, अनिवार्य, जो निवारण करन योग्य न हो, स्वेच्छाचारी, बिना डर या दवाव का, बकहा।
 निरंग-(सं. वि.) अंगहीन, केवल; (पुं.) रूपक अलंकार का एक भेद जहाँ उपमेय में उपमान का इस प्रकार आरोप होता है कि एक-दूसरे के सभी अंग नहीं मिलते; (हि. वि.) बिना रंग का, उदास, फीका।
 निरंगुल-(सं. वि.) जिसको अँगुली न हो।
 निरंजन-(सं. वि.) बिना अंजन का, अंजन-रहित, अज्ञान से रहित, निर्दोष; (पुं.) परमात्मा, शिव।
 निरंजनी-(सं. पुं.) सायुओं का एक संप्रदाय।
 निरंतर-(सं. वि.) बिना अंतर या फासले का, जिसका क्रम न टूटा हो, अगुंठ, लगातार होनेवाला; (अव्य.) लगातार, बराबर, सदैव।
 निरंतरता-(सं. स्त्री.) निरंतर होने का भाव, अविच्छिन्नता।
 निरंध-(सं. वि.) निपट अंध या मुर्गा।
 निरंधु-(सं. वि.) बिना पानी का, निर्जल।
 निरंभ-(सं. वि.) बिना पानी का।
 निरंदा-(सं. वि.) बिना अंश फा, अंगहीन।
 निरक्षेयल-(हि. वि.) बिना माल का, स्वच्छ।
 निरक्षेयरा-(सं. पुं.) मूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण के ये देश जहाँ दिन-रात प्रायः बराबर होते हैं।
 निरक्षन-(हि. पुं.) देखें 'निरक्षय'।
 निरक्षर-(सं. वि.) जिसने एक अक्षर भी न पता हो, अपठ, मुर्ख।
 निरक्ष-रेखा-(सं. स्त्री.) नार्दीमण्डल, मान्तिवृत्त।

निरखना—(हि. क्रि. स.) देखना, ताकना ।
 निरग—(हि. पुं.) देखें 'नृग' ।
 निरगुण—(हि. वि.) देखें 'निर्गुण', वह जिसमें गुण न हो, अनाड़ी ।
 निरग्नि—(सं. पुं.) वह ब्राह्मण जो श्रौत और स्मार्त विधियों के अनुसार अग्निकर्म न करता हो ।
 निरग्न—(हि. वि.) निश्चिन्त, जिसको अवकाश मिल गया हो, जिसने छुट्टी ली हो ।
 निरच्छ—(हि. वि.) चक्षुहीन, अंधा ।
 निरजर—(हि. वि.) जो कभी जीर्ण या पुराना न हो ।
 निरजल—(हि. वि.) देखें 'निर्जल' ।
 निरजी—(हि. स्त्री.) संगतराश की संगमरमर काटने की महीन टाँकी ।
 निरजोस—(हि. पुं.) निर्णय, निचोड़, सारांश ।
 निरजोसी—(हि. वि.) निर्णय करनेवाला, सारांश निकालनेवाला ।
 निरझर—(हि. पुं.) देखें 'निर्झर' ।
 निरत—(सं. वि.) नियुक्त, तत्पर, किसी काम में लगा हुआ, लीन, तन्मय; (हि. पुं.) देखें 'नृत्य' ।
 निरतना—(हि. क्रि. अं.) नृत्यकरना, नाचना ।
 निरति—(सं. स्त्री.) अत्यन्त प्रीति, लीन होने का भाव ।
 निरतिशय—(सं. वि., पुं.) अतिशय से परे, परमेश्वर, सर्वज्ञ, परम श्रेष्ठ ।
 निरत्यय—(सं. वि.) जिसकी हृद न हो, जिसका नाश न हो, आपत्तिरहित ।
 निरदई—(हि. वि.) देखें 'निर्दय' ।
 निरधन—(हि. वि.) देखें 'निर्वन' ।
 निरधानु—(हि. वि.) वीर्यहीन, शक्तिहीन, अशक्त ।
 निरधार—(हि. पुं.) देखें 'निर्धार' ।
 निरधाना—(हि. क्रि. स.) निश्चय करना, स्थिर करना, ठहराना, मन में धारण करना ।
 निरध्व—(सं. वि.) जो अपना मार्ग भूल गया हो ।
 निरनुक्रोश—(सं. वि., पुं.) निर्दय, निष्ठुरता; -ता—(स्त्री.) निर्दयता; -युक्त—(वि.) निर्दय ।
 निरनुग—(सं. वि.) जिसके पास कोई सेवक न हो ।
 निरनुनासिक—(सं. वि.) जिसका उच्चारण नाक से न किया जाय ।
 निरनुरोध—(सं. वि.) निष्ठुर, कृतघ्न ।
 निरन्न—(सं. वि.) अन्नहीन, बिना अन्न का, निराहार, जिसन अन्न न खाया हो ।
 निरन्नता—(सं. स्त्री.) उपवास ।
 निरन्ना—(हि. वि.) निराहार, जिसने अन्न न

खाया हो ।
 निरन्वय—(सं. वि.) संबन्धरहित, निःसंतान ।
 निरपना—(हि. वि.) जो आत्मीयन हो, पराया ।
 निरपराध—(सं. पुं.) दोषहीनता, निर्दोषता, शुद्धता; (वि.) अपराधरहित, निर्दोष; (अव्य.) बिना कोई अपराध किये हुए ।
 निरपराधी—(हि. वि.) देखें 'निरपराध' ।
 निरपवर्त—(सं. वि.) जो अपवर्तन न करता हो, जिसमें भाजक का पूरा भाग लग सके ।
 निरपवाद—(सं. वि.) अपवादरहित, निर्दोष, जिसकी कोई बुराई न करे ।
 निरपाय—(सं. वि.) जिसका नाश न हो ।
 निरपेक्ष—(सं. वि.) जिसको किसी वस्तु की आकांक्षा या चाह न हो, जिसको किसी दूसरे की आशा न हो, तटस्थ, पृथक्, अलग, उदासीन ।
 निरपेक्षा—(सं. स्त्री.) अवज्ञा, निराशा ।
 निरपेक्षित—(सं. वि.) जिसकी अपेक्षा या आकांक्षा न की गयी हो ।
 निरपेक्षी—(सं. वि.) अपेक्षा न रखनेवाला ।
 निरफल—(हि. वि.) निष्फल ।
 निरबंध—(हि. वि.) बन्धनहीन ।
 निरवंसी—(हि. वि.) निर्वंश, जिसको वंश या सन्तान न हो ।
 निरवल—(हि. वि.) देखें 'निर्वल' ।
 निरंवलना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'निमना' ।
 निरवाहना—(हि. क्रि. स.) निर्वाह करना ।
 निरभिभव—(सं. वि.) जो जीता न जा सके, जो अपमानित न हो ।
 निरभिमान—(सं. वि.) अभिमानरहित ।
 निरभिलाष—(सं. वि.) अभिलाषारहित ।
 निरभ्र—(सं. वि.) मेघशून्य, बिना बादल का ।
 निरमण—(सं. पु.) अत्यन्त अनुराग, अधिक प्रेम ।
 निरमना—(हि. क्रि. स.) निर्माण करना, बनाना, रचना ।
 निरमर्ष—(सं. वि.) जिसे कोप न हो, धीर, धर्मयुक्त, अमर्षशून्य ।
 निरमान—(हि. पुं.) देखें 'निर्माण' ।
 निरमाना—(हि. क्रि. स.) निर्माण करना, बनाना, तैयार करना ।
 निरमित्र—(सं. वि.) शत्रुरहित; (पुं.) नकुल के एक पुत्र का नाम ।
 निरमूलना—(हि. क्रि. स.) निर्मूल करना, नष्ट करना ।
 निरमोल—(हि. वि.) अमूल्य, अनमोल, बहुत बढ़िया ।
 निरमोही—(हि. वि.) देखें 'निर्मोही' ।
 निरय—(सं. पुं.) नरक ।
 निरयण—(सं. पु.) ज्योतिष में गणना

करने की एक रीति, अयनरहित गणना ।
 निरगल—(सं. वि.) जिसमें कोई बाधा न हो ।
 निरर्थ—(सं. वि.) अर्थशून्य, जिसका अर्थ न हो, निष्फल, व्यर्थ ।
 निरर्थक—(सं. वि.) अर्थशून्य, निष्फल, निष्प्रयोजन, व्यर्थ, न्याय का एक निग्रहस्थान, काव्य का एक दोष ।
 निरर्वुद—(सं. पुं.) एक नरक का नाम ।
 निरलंकार—(हि. वि.) अलंकाररहित ।
 निरलस—(हि. वि.) आलस्यहीन ।
 निरवकाश—(सं. वि.) जिसे अवकाश न हो ।
 निरवग्रह—(सं. वि.) स्वतन्त्र, प्रतिबन्धरहित, बिना विघ्न या बाधा का, जो दूसरे की इच्छा पर न हो ।
 निरवच्छिन्न—(सं. वि.) जिसका क्रम न टूटे, निरन्तर ।
 निरवद्य—(सं. वि.) अनिन्द्य, विशुद्ध, निर्मल; (पुं) गायत्री का एक भेद, परमात्मा ।
 निरवधि—(सं. अव्य.) निरन्तर, बराबर, सर्वदा; (वि.) असीम, अपार ।
 निरवयव—(सं. वि.) अंगों से रहित, निराकार, (न्याय के मत से परमाणु तथा आकाशादि निरवयव माने गये हैं तथा सर्वथा अवयवशून्य केवल ब्रह्म है ।)
 निरवरोध—(सं. वि.) प्रतिबन्धरहित, बिना रुकावट का ।
 निरवलंब—(सं. वि.) आधाररहित, निराश्रय, बिना सहारे का, जिसको कहीं ठिकना न हो, जिसका कोई सहायक न हो ।
 निरवलंबन—(सं. वि.) निराश्रय, असहाय ।
 निरवशेष—(सं. वि.) समग्र, समूचा ।
 निरवशेषित—(सं. वि.) जिसका कुछ बचा न हो ।
 निरवसाद—(सं. वि.) जिसको दुःख या अवशिष्ट न हो ।
 निरवस्कृत—(सं. वि.) परिष्कृत, स्वच्छ किया हुआ ।
 निरवस्तार—(सं. वि.) बिना विद्यौने का ।
 निरवाना—(हि. क्रि. स.) निराने का काम दूसरे से कराना ।
 निरवार—(हि. पु.) निस्तार, छुटकारा, सुलझाने का काम, निवटाना, गाँट आदि छुड़ाना, सुलझाना, निर्णय ।
 निरवारना—(हि. क्रि. स.) मुक्त करना, छुड़ाना, त्यागना, सुलझाना, गाँट आदि छुड़ाना, निर्णय करना ।
 निरवाह—(हि. पुं.) निर्वाह ।
 निरशन—(सं. पु.) अतशन, भोजन न करना, लंघन, उपवास; (वि.) जिसने कुछ खाया न हो ।

निरसंक—(हि. वि.) देखें 'निःशंक' ।
 निरस—(सं. वि.) नीरस, रसहीन, जिसमें रस न हो, फीका, निःसत्त्व, असार, सूखा, सूखा, विरक्त ।
 निरसन—(सं. पु.) निराकरण, परिहार, वध, थूकना, दूर करना, हटाना, निकालना, नाश ।
 निरसा—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास ।
 निरस्त—(सं. वि.) जल्दी से निकाला हुआ, थूका हुआ, उगला हुआ, प्रेषित, भेजा हुआ; (पु.) थूकने की क्रिया, सोचने की क्रिया ।
 निरस्त्र—(सं. वि.) अस्त्रशून्य, बिना अस्त्र का ।
 निरस्थि—(सं. वि.) (वह मांस) जिसमें से हड्डी अलग कर दी गई हो ।
 निरस्थ—(सं. वि.) खंडनीय, परिहार करने योग्य;—मान—(वि.) अलग किया, जानेवाला ।
 निरहंकार—(सं. वि.) अभिमानरहित ।
 निरहंकृत—(सं. वि.) अहंकाररहित ।
 निरहंकृति—(सं. स्त्री.) निरभिमान, निरहंकार ।
 निरहंक्रिय—(सं. वि.) जिसका घमंड नष्ट हुआ हो ।
 निरहंमति—(सं. वि.) अभिमानरहित ।
 निरहंतु—(हि. वि.) देखें 'निहतु' ।
 निरा—(हि. वि.) विशुद्ध, बिना मिलावट का, केवल, एकमात्र, जिसके साथ और कोई न हो, नितान्त, निपट ।
 निराई—(हि. स्त्री.) निराने का काम, खेत में अनावश्यक उगनवाली घास या तृण हटाने का काम, निराने का शूल्क ।
 निराकरण—(सं. पु.) निवारण, किसी बुराई को दूर करने का काम, छांटना, अलग करना, मिटाना, हटाना, दूर करना, सिद्धान्त, निर्णय, शमन, परिहार, युक्ति को काटने का काम, गीमांसा, अवधारण ।
 निराकांक्ष—(सं. वि.) जिसको अभिलाषा या आकांक्षा न हो ।
 निराकांक्षा—(सं. स्त्री.) लोभ, लालसा या आकांक्षा का न होना ।
 निराकांक्षी—(सं. वि.) निस्पृह, जिसको कुछ इच्छा न हो ।
 निराकार—(सं. वि.) जिसका कोई आकार न हो; (पुं.) परमेश्वर, परब्रह्म, आकाश ।
 निराकाश—(सं. वि.) आकाशशून्य ।
 निराकुल—(सं. वि.) अनुद्विग्न, जो घबड़ाया न हो, अत्यन्त व्याकुल, बहुत घबड़ाया हुआ ।

निराकृत—(सं. वि.) निरस्त, खंडन किया हुआ, निवारित, नष्ट किया हुआ, विचार हुआ, दूर किया हुआ, हटाया हुआ ।
 निराकृति—(सं. स्त्री.) प्रत्यादेश, परिहार; (वि.) निराकार ।
 निराक्रंद—(सं. पुं.) वहाँ रोना जहाँ कोई पुकार सुननेवाला या सहायता करनेवाला न हो; (वि.) जिसकी सहायता कोई न करे ।
 निराक्रिया—(सं. स्त्री.) प्रतिवन्ध ।
 निराक्षर—(हि. वि.) बिना अक्षर का, जिसमें अक्षर न हों, अपठित, मूढ़, मौन, चुप ।
 निराग—(सं. वि.) रागशून्य, रागहीन ।
 निरागम—(सं. वि.) आगमरहित ।
 निरागस—(सं. वि.) पापशून्य, पापरहित ।
 निराग्रह—(सं. वि.) आग्रहशून्य, बिना आग्रह का ।
 निराचार—(सं. वि.) आचारशून्य ।
 निराजी—(हि. स्त्री.) जुलाहे के करधे के हथ्ये पर की एक लकड़ी ।
 निराजीव्य—(सं. वि.) जिसका जीवनोपाय कुछ न हो ।
 निराट—(हि. वि.) एकमात्र, निपट, निरा ।
 निराडंबर—(सं. वि.) आडंबररहित, बिना ठाट-बाट का ।
 निरातंक—(सं. वि.) भयशून्य, रोगरहित ।
 निरातप—(सं. वि.) आतप या उष्णतारहित ।
 निरातपा—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात ।
 निरात्मक—(सं. वि.) आत्मशून्य ।
 निरादर—(सं. पुं.) अपमान ।
 निरादान—(सं. पुं.) लेन का अभाव; (वि.) जो प्रतिग्रह स्वीकार न करता हो ।
 निरादिष्ट—(सं. वि.) ऋण जो अदा कर दिया गया हो ।
 निरादेश—(सं. पुं.) चुकाने का काम, भुगतान; (वि.) आदेशरहित ।
 निराधान—(सं. वि.) आधानरहित ।
 निराधार—(सं. वि.) अवलम्बहीन, आश्रयरहित, जिसको सहारा न हो, जो सहारे पर न हो, जो बिना अन्न-जल के हो, जो प्रमाणों से पुष्ट न हो, मिय्या, अयुक्त, जिसको जीविका का सहारा न हो ।
 निराधि—(सं. वि.) रोगरहित, जिसको कोई चिन्ता न हो ।
 निरानंद—(सं. वि.) आनन्दरहित, शोकाकुल; (पुं.) आनन्द का अभाव दुःख, चिन्ता ।
 निराना—(हि. क्रि. स्.) पीधों के आस-पास उगी हुई घास आदि को खोदकर हटाना ।
 निरापद्—(सं. वि.) जिसको कोई आपत्ति या डर न हो, जिसको किसी

प्रकार की विपत्ति की संभावना न हो, सुरक्षित, जहाँ किसी बात का डर न हो ।
 निरापन—(हि. वि.) पराया, जो अपना न हो ।
 निरावाध—(सं. वि.) वाधाशून्य ।
 निरामय—(सं. वि.) रोगशून्य, मला, चंगा, उपद्रवशून्य, कुशल; (पुं.) शिव, महादेव ।
 निरामालु—(सं. पुं.) कैय का वृक्ष, निर्मली ।
 निरामिय—(सं. वि.) बिना मांस का, मांसरहित, जिसमें मांस न मिला हो, जो मांस न खाता हो ।
 निरामिपाशी—(सं. वि.) मांस न खानेवाला, शाकाहारी ।
 निराय—(सं. वि.) आयररहित, बिना कर का ।
 निरायण—(सं. वि.) अयनरहित ।
 निरायत—(सं. वि.) अविस्तृत, न फैला हुआ, सिकुड़ा हुआ ।
 निरायास—(सं. वि.) आयास या चेष्टारहित, सुकर ।
 निरायुध—(सं. वि.) अस्त्रहीन ।
 निरायभ—(सं. वि.) आरम्भ या प्रयत्नशून्य ।
 निरारा—(हि. वि.) देखें 'निराला', पृथक्, अलग ।
 निरालंब—(सं. वि.) निराधार, बिना सहारे का, बिना ठिकाने का ।
 निरालंबन—(सं. वि.) निराश्रय, बिना ठौर-ठिकाने का ।
 निरालंबा—(सं. स्त्री.) छोटी जटामासी ।
 निरालस—(हि. वि.) बिना आलस्य का ।
 निरालस्य—(सं. वि.) जिसमें आलस्य न हो, तत्पर; (पुं.) आलस्य का अभाव ।
 निराला—(हि. पुं.) एकान्त स्थान, ऐसा स्थान जहाँ कोई मनुष्य या वस्ती न हो; (वि.) निर्जन, एकान्त, अद्भुत, विलक्षण, अपूर्व, सब से भिन्न, अनोखा, अति उत्तम, अनूठा ।
 निरालोक—(सं. वि.) आलोकरहित, जिसमें से प्रकाश निकल गया हो, अन्धकारयुक्त ।
 निरावना—(हि. क्रि. स्.) देखें 'निराना' ।
 निरावर्ष—(सं. वि.) वर्षा से रहित ।
 निरावृत—(सं. वि.) जो टपका न हो ।
 निरायांक—(सं. वि.) आयांकाररहित, जिसमें किसी बात का सन्देह न हो ।
 निराया—(सं. वि.) आशारहित ।
 निरायाक—(सं. वि.) निराग करनेवाला ।
 निरायता—(सं. स्त्री.) निराग होने का धर्म या नाव ।
 निरायात्व—(सं. पुं.) निराग या नाव ।
 निराया—(सं. स्त्री.) आया का अभाव ।

निराशिप्—(सं. वि.) विना आशीर्वाद का, तृष्णारहित ।
 निराशी—(सं. वि.) आशाहीन, हताश, विरक्त, उदासीन ।
 निराश्रम—(सं. वि.) आश्रमरहित ।
 निराश्रय—(सं. वि.) विना आश्रय या सहारे का, असहाय, अशरण, जिसको कहीं ठिकाना न हो ।
 निरास—(सं. पुं.) निराकरण, खण्डन ।
 निरासन—(सं. वि.) आसनरहित ।
 निरासी—(हिं. वि.) निराश, उदास ।
 निरास्वाद—(सं. वि.) स्वादरहित ।
 निरास्वाद्य—(सं. वि.) सम्भोगरहित ।
 निराहार—(सं. वि.) आहाररहित, जिसने भोजन न किया हो, उपवासवाला (व्रत); (पुं.) आहार का अभाव ।
 निरिग—(सं. वि.) अचल, निश्चल ।
 निरिगिणी—(सं. स्त्री.) चिक, परदा, झिलमिली ।
 निरिन्द्रिय—(सं. वि.) इन्द्रियरहित, जिसको कोई इन्द्रिय न हो ।
 निरिच्छ—(सं. वि.) इच्छाशून्य, जिसको इच्छा न हो ।
 निरिच्छता—(हिं.क्रि.स.) निरीक्षण, देखना ।
 निरी—(हिं. वि. स्त्री.) देखें 'निरा' ।
 निरीक्षक—(सं. वि.) दर्शक, देखनेवाला, देखरेख करनेवाला ।
 निरीक्षण—(सं. पुं.) दर्शन, देखरेख, देखने का ढंग, चितवन, नेत्र, आँख, जाँच करना ।
 निरीक्षमाण—(सं. वि.) जो देख रहा हो ।
 निरीक्षा—(सं. स्त्री.) दर्शन, निरीक्षण ।
 निरीक्षित—(सं. वि.) देखा हुआ, निरीक्षण किया हुआ, जाँचा हुआ ।
 निरीक्ष्य—(सं. वि.) निरीक्षण के योग्य ।
 निरीश—(सं. वि.) विना मालिक का, ईश्वर को न माननेवाला, नास्तिक ।
 निरीश्वर—(सं. वि.) अनीश्वरवादी, नास्तिक ।
 निरीश्वरवाद—(सं. पुं.) यह सिद्धान्त कि ईश्वर नहीं है, नास्तिकता ।
 निरीश्वरवादी—(सं. पुं.) नास्तिक जो ईश्वर को न मानता हो ।
 निरीष—(सं. पुं.) हल का फार ।
 निरीह—(सं. वि.) चेष्टाशून्य, जो किसी बात के लिये प्रयत्न न करता हो, जिसको किसी बात की चाह न हो, विरक्त, उदासीन, तटस्थ, जो सर्वदा सब से भेळ रखता हो; (पुं.) विष्णु ।
 निरीहा—(सं. स्त्री.) निश्चेष्टा, विरक्ति ।
 निरवार—(हिं. पुं.) देखें 'निरवार' ।

निरवारना—(हिं.क्रि.स.) देखें 'निरवारना' ।
 निरवत—(सं. पुं.) निर्वचन, वेद के छः अंगों में से एक, यास्कमुनिकृत वैदिक शब्दों के निघण्टु की व्याख्या जिसमें उनके अर्थों का निर्णय किया गया है; (वि.) व्याख्या किया हुआ, निश्चित किया हुआ ।
 निरवित—(सं. स्त्री.) निर्वचन, व्युत्पत्ति आदि को बतलाते हुए किसी पद या वाक्य की व्याख्या, एक काव्यालंकार जिसमें किसी शब्द का मनमाना अर्थ लगाया जाय परन्तु वह अर्थ युक्तिपूर्ण हो ।
 निरुच्छ्वास—(सं. वि.) संकीर्ण, संकरा, जहाँ बहुत से लोग भरे हों ।
 निरुज—(हिं. वि.) देखें 'नीरुज' ।
 निरुत्तर—(सं. वि.) उत्तररहित, जो उत्तर न दे सके ।
 निरुत्पात—(सं. वि.) उपद्रवशून्य, उत्पातरहित ।
 निरुत्सव—(सं. वि.) उत्सवहीन, विना घूमघाम का ।
 निरुत्साह—(सं. वि.) विना उत्साह का ।
 निरुत्सुक—(सं. वि.) औत्सुक्यहीन; (पुं.) वैवस्वत मनु के एक पुत्र का नाम ।
 निरुत्क—(सं. वि.) जलहीन, विना जल का ।
 निरुद्ध—(सं. वि.) बँधा हुआ, रुका हुआ; (पुं.) योग की पाँच प्रकार की मनोवृत्तियों में से चित्त की वह अवस्था जिसमें वह अपनी कारणीभूत प्रकृति को प्राप्त कर निश्चेष्ट हो जाता है; -गुद—(पुं.) एक रोग जिसमें मल-द्वार प्रायः बन्द हो जाता है; -प्रकस—(पुं.) मूत्र-द्वार बन्द होना तथा बूँद-बूँद मूत्र गिरने का रोग ।
 निरुद्यम—(सं. वि.) विना उद्योग का, -जिसके पास कोई उद्यम या काम न हो, विना काम-काज का ।
 निरुद्यमी—(हिं. वि.) जो कोई उद्यम न करता हो ।
 निरुद्योग—(सं. वि.) जिसके पास कोई उद्योग न हो, निरुद्यम ।
 निरुद्योगी—(हिं. वि.) जो कोई उद्योग न करता हो ।
 निरुद्विग्न—(सं. वि.) उद्वेगरहित, निश्चिन्त ।
 निरुद्वेग—(सं. वि.) उद्वेगरहित, निश्चिन्त ।
 निरुपक्रम—(सं. वि.) विना उपक्रम का ।
 निरुपद्रव—(सं. वि.) उपद्रवरहित, जो उत्पात या उपद्रव न करता हो ।
 निरुपद्रवता—(सं. स्त्री.) निरुपद्रव होने की क्रिया या भाव ।

निरुपद्रवी—(हिं. वि.) जो उपद्रव न करता हो, शान्त ।
 निरुपपत्ति—(सं. वि.) जिसमें किसी प्रकार की उपपत्ति न हो ।
 निरुपपद—(सं. वि.) उपपदरहित ।
 निरुपप्लव—(सं. वि.) उत्पातरहित ।
 निरुपभोग—(सं. वि.) उपभोगरहित ।
 निरुपम—(सं. वि.) उपमारहित, जिसकी उपमा या तुलना न हो ।
 निरुपमा—(सं. स्त्री.) गायत्री का एक नाम ।
 निरुपयोग—(सं. वि.) जिसका उपयोग न किया जा सके, निरर्थक, व्यर्थ ।
 निरुपरोध—(सं. वि.) उपरोधरहित, अपक्षपाती ।
 निरुपल—(सं. वि.) विना पत्थर का ।
 निरुपलेप—(सं. वि.) उपलेपरहित ।
 निरुपसर्ग—(सं. वि.) उत्पातरहित, उपसर्गहीन ।
 निरुपस्कृत—(सं. वि.) पवित्र, स्वाभाविक, अकृत्रिम ।
 निरुपहत—(सं. वि.) शुभसूचक ।
 निरुपाख्य—(सं. वि.) जिसकी व्याख्या न हो सके, असत्य, जिसके होने की संभावना न हो ।
 निरुपाधि—(सं. वि.) उपाधिशून्य, मायारहित, बाधरहित; (पुं.) ब्रह्मा ।
 निरुपाय—(सं. वि.) उपायहीन, जो कुछ उपाय न कर सके ।
 निरुपेक्ष—(सं. वि.) उपेक्षारहित ।
 निरुवरना—(हिं. क्रि. अ.) सुलझाना, कठिनाई मिटाना ।
 निरुवार—(हिं. पुं.) मोचन, मुक्ति, छुटकारा, वचाव, उलझन मिटाने का काम, निर्णय, सुलझाने का काम ।
 निरुवारना—(हिं. क्रि. स.) मुक्त करना, छोड़ाना, निर्णय करना, सुलझाना, निवटाना, उलझन मिटाना ।
 निरुष्मन्—(सं. वि.) जो गरम न हो, शीतल ।
 निरुद्ध—(सं. वि.) प्रसिद्ध, प्रख्यात, व्युत्पन्न, अविवाहित, क्वारा; (पुं.) व्युत्पत्ति या लक्षणा द्वारा अर्थबोधक शब्द, एक प्रकार का पशु-याग ।
 निरुद्ध-लक्षणा—(सं. स्त्री.) लक्षणा का वह भेद जिसमें किसी शब्द का वास्तविक अर्थ रुद्ध ही गया हो अर्थात् केवल प्रसंग से ही वह अर्थ लगाया गया हो ।
 निरुद्धा—(सं. स्त्री.) अविवाहिता या कुंवारी स्त्री ।
 निरुद्धि—(सं. स्त्री.) प्रसिद्धि, निरुद्ध-लक्षणा ।

निरूप-(सं. वि.) रूपहीन, निराकार, कुरूप, भद्दा; (पुं.) वायु, देवता, आकाश ।
 निरूपक-(सं.वि.) किसी विषय का निरूपण करनेवाला ।
 निरूपकता-(सं. स्त्री.) निरूपण करने का भाव ।
 निरूपण-(सं.पुं.) आलोक, विचार, विवेचनसहित निर्णय, निदर्शन, निरूपकता ।
 निरूपणा-(हिं.क्रि.सं.) निर्णय या निश्चित करना, स्थिर करना ।
 निरूपम-(हिं. वि.) देखें 'निरूपम' ।
 निरूपित-(सं.वि.) विचार हुआ, निर्णय किया हुआ, दृष्ट, देखा हुआ ।
 निरूप्य-(सं. वि.) निरूपण करने योग्य ।
 निरूह-(स.पुं.) वस्ति की पिचकारी ।
 निरूहण-(सं. पु.) स्थिरता, निश्चय ।
 निरूक-(सं. वि.) परिपूर्ण, पूरा ।
 निरूखना-(हिं. क्रि. सं.) देखें 'निरूखना' ।
 निरू-(हिं. पु.) निरय, नरक ।
 निरोग, निरोगी-(हिं. वि.) रोगरहित, आरोग्यपूर्ण, स्वस्थ ।
 निरोध-(सं. पुं.) नाश, रुकावट, बंधन, प्रतिबंध, अवरोध, घेरा, योग में चित्त की सब वृत्तियों को रोकने का भाव ।
 निरोधक-(सं. वि.) निरोध करनेवाला ।
 निरोधन-(सं. पुं.) गति का अवरोध, रुकावट, निरोध ।
 निरोधी-(सं.वि.) प्रतिबन्धक, रोकनेवाला ।
 निर्ल-(फा.पुं.) दर, भाव; -नामा-(पुं.) वह सूची जिसमें दुकान की प्रत्येक या विशिष्ट विक्रेय वस्तुओं का भाव लिखा हो ।
 निर्गंध-(सं.वि.) गंधरहित; -ता-(स्त्री.) निर्गंध होने की अवस्था या भाव; -गुष्पी-(स्त्री.) सेमर का पेड़ ।
 निर्गंधन-(सं. पुं.) मारण ।
 निर्गत-(सं. वि.) निकला हुआ, बाहर आया हुआ ।
 निर्गम-(सं. पुं.) निकलना, निःसरण, निकास ।
 निर्गमन-(सं.पु.) द्वार, द्वारपाल, ड्योड़ी-दार ।
 निर्गमना-(हिं.क्रि.अं.) निकलना ।
 निर्गर्व-(सं. वि.) अहंकाररहित ।
 निर्गवाक्ष-(सं.वि.) जिसमें झरोखा न हो ।
 निर्गुंठी-(सं. स्त्री.) निर्गुंठी, निरुप ।
 निर्गुंठी-(सं. स्त्री.) एक पीठा जिसकी जड़ औषधों में प्रयुक्त होती है, संमाल् ।
 निर्गुण-(सं. वि.) जिसमें गुण न हों, जिसमें डोरी या बिल्ला न हो, जिसमें

सत्त्व, रज और तम तीनों गुण न हों; (पुं.) परमेश्वर; -ता-(स्त्री.) निर्गुण होने की क्रिया या भाव, गुणहीनता; -त्व-(पुं.) गुणहीनता, मूर्खता ।
 निर्गुणात्मक-(सं.वि.) निर्गुणस्वरूप (ब्रह्म) ।
 निर्गुणिया-(हिं. वि.) जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता हो ।
 निर्गुणी-(हिं.वि.) जिसमें कोई गुण न हो, मूर्ख ।
 निर्गुंड-(सं.वि.) जो बहुत गूढ़ या गुप्त हो ।
 निर्गुह-(सं.वि.) गूहशून्य, जिसके घर न हो ।
 निर्गौरव-(सं. वि.) गौरवरहित, अहंकारशून्य, विनीत, नम्र ।
 निर्ग्रथ-(सं. पुं.) दिगम्बर जैनी; (वि.) जुआ खेलनेवाला, निर्धन, निःसहाय, मूर्ख ।
 निर्ग्रथक-(सं.वि.) निष्फल, वस्त्ररहित, तंगा ।
 निर्ग्रथन-(सं. पुं.) मारण ।
 निर्ग्रथि-(सं.वि.) जिसमें गाँठ या गिरह न हो ।
 निर्ग्रथिक-(सं. पुं.) क्षपणक; (वि.) चतुर, हीन, निर्ग्रथि ।
 निर्ग्रह्नि-(सं. वि.) जो अच्छी तरह से ग्रहण न किया जा सके ।
 निर्घट-(सं. पुं.) शब्द या ग्रन्थ-सूची ।
 निर्घट-(सं. पुं.) वह हाट जहाँ किसी प्रकार का राज-कर न लगता हो ।
 निर्घात-(सं. पुं.) तीव्र वायु के चलने से उत्पन्न शब्द, चोट ।
 निर्घातिय-(सं. वि.) छेदने योग्य ।
 निर्घुरिणी-(सं. स्त्री.) निर्झरिणी, पानी का सोता ।
 निर्घृण-(सं. वि.) दयाशून्य, निर्दय, निन्दित अयोग्य, जिसको बुरा काम करने में धृणा न हो ।
 निर्घोष-(सं. पुं.) शब्द, निनाद; (वि.) शब्द-शून्य, शब्दरहित ।
 निर्घल-(हिं. वि.) देखें 'निश्चल' ।
 निर्जन-(सं. वि.) जनशून्य (स्थान), जिस स्थानमें कोई मनुष्य न हो, सुनसान ।
 निर्जर-(सं.पुं.) देवता, सुधा, अमृत; (वि.) जरारहित, जिसको बुझापा न आवे ।
 निर्जरा-(सं. स्त्री.) गुरुक्ष, गिलोय, तालपर्णी ।
 निर्जरायु-(सं. वि.) जरायुहीन ।
 निर्जल-(सं. वि.) जलशून्य, बिना जल का, जल के संसर्ग से रहित; (पुं.) वह प्रदेश जहाँ पानी न हो; निर्जन्म एकादशी-(स्त्री.) जेठ सुदी एकादशी तिथि जिस दिन हिन्दू लोग व्रत करते हैं और पानी तक नहीं पीते ।
 निर्जित-(सं. वि.) पराजित, जीता हुआ, जो वस में कर लिया गया हो ।

निर्जित्त्व-(सं. वि.) जिसके जीम न हो ।
 निर्जोब-(सं. वि.) प्राणहीन, मृतक, अशक्त, उरसाहीन ।
 निर्जोवन-(हिं. वि.) जीवनहीन ।
 निर्जोवित-(सं. वि.) जीवनहीन ।
 निर्झर-(सं. पुं.) पहाड़ से निकला हुआ जलप्रवाह, झरना, सोता ।
 निर्झरिणी-(सं. स्त्री.) नदी, दरिया ।
 निर्झरी-(सं. पुं.) पर्वत, गिरि, पहाड़; (सं. स्त्री.) पानी का झरना, सोता ।
 निर्णय-(सं.पुं.) उचित-अनुचित का विचार करके किसी विषय के दो पक्षों में से एक पक्ष को ठीक निर्धारित करना, किसी विषय में कोई सिद्धान्त स्थिर करना, विचार, मीमांसा के किसी सिद्धान्त से कोई परिणाम निकालना, विरोध का परिहार, निवटारा ।
 निर्णयन-(सं. पुं.) निर्णय ।
 निर्णयोपमा-(सं. स्त्री.) वह धर्वालंकार जिसमें उपमेय और उपमान के गुण-दोषों की विवेचना की जाती है ।
 निर्णायक-(सं. पुं.) न्यायकर्ता; -मत्त-(पुं.) समान मत होने पर समापति का निजी निर्णयात्मक मत ।
 निर्णायन-(सं. पुं.) निर्णय का कारण ।
 निर्णयत-(सं. वि.) श्रुद्ध किया हुआ ।
 निर्णज-(सं. वि.) जीता हुआ ।
 निर्णीत-(सं. वि.) निर्णय किया हुआ ।
 निर्णोक-(सं. पुं.) अत्यन्त युद्ध ।
 निर्णोक-(सं. पुं.) रजक, धोबी ।
 निर्णजन-(सं. पुं.) श्रुद्धि, प्रायश्चित्त ।
 निर्णेता-(सं.वि.) निर्णय करने वाला ।
 निर्णय-(सं. वि.) निर्णय करने योग्य ।
 निर्त-(हिं. पुं.) देखें 'नृत्य' ।
 निर्तक-(हिं. पुं.) देखें 'नर्तक' ।
 निर्तना-(हिं.क्रि.अं.) नृत्य करना, नानना ।
 निर्दंड-(सं. वि.) दण्डहीन, जिसको दण्ड न दिया जाय ।
 निर्दम्भ-(सं. वि.) जमिमानरहित ।
 निर्दई-(हिं. वि.) देखें 'निर्दय' ।
 निर्दय-(सं. वि.) जो जल न हो ।
 निर्दग्धका-(सं. वि.) उग्रपत्नी ।
 निर्दंड-(सं. वि.) निर्दय, तडोर-हृदय ।
 निर्दंड-(सं. वि.) निर्दय, निजबोसण ।
 निर्दय-(सं. वि.) शरणागि, निष्कर; -ता-(स्त्री.) निष्करता; -त्व-(पुं.) -पत्त-(हिं. पुं.) निर्दय होने का भाव या स्थिति ।
 निर्दयो-(हिं. वि.) देखें 'निर्दय' ।
 निर्दर-(सं. पुं.) गुना, परम्परा; (वि.) कठिन ।

निर्दल—(सं. वि.) जो किसी दल में न हो, दलहीन, दलबंदी से अलग ।
 निर्दलन—(सं. पुं.) विदारण ।
 निर्दशन—(सं. वि.) विना दाँत का ।
 निर्दहन—(सं.पुं.) भिलावे का पेड़, आग से जलाना; (वि.) अग्निशून्य ।
 निर्दहना—(हि. क्रि. स.) जलाना ।
 निर्दहनी—(सं. स्त्री.) मूर्वा लता ।
 निर्दहित—(सं. वि.) आग से जला हुआ ।
 निर्दिध—(सं. वि.) पुष्ट, मोटा ।
 निर्दिष्ट—(सं. वि.) निश्चित, ठहराया हुआ, आदिष्ट, आज्ञा दिया हुआ ।
 निर्दूषण—(सं. वि.) देखें 'निर्दोष' ।
 निर्दश—(सं.पुं.) उल्लेख, वर्णन, संकेत, संज्ञा, चेतन, निश्चय, कथन, आज्ञा ।
 निर्दशन—(सं.पुं.) निर्देश करने की क्रिया ।
 निर्देशिका—(सं. स्त्री.) व्यवसायियों के नाम, पते आदि की पुस्तक ।
 निर्दंष्टा—(सं. वि.) निर्दश देनेवाला ।
 निर्दन्य—(सं. वि.) दीनतारहित ।
 निर्दोष—(सं. वि.) दोषरहित, जिसने कोई अपराध न किया हो; -ता—(स्त्री.) दोषहीनता, शुद्धता ।
 निर्दोषी—(हि. वि.) जिसने कोई अपराध न किया हो ।
 निर्द्वय—(सं. वि.) दरिद्र, वनहीन ।
 निर्द्वोह—(सं. वि.) द्रोहरहित, मित्र जैसा ।
 निर्द्वन्द्व—(सं. वि.) जिसका विरोध करनेवाला कोई न हो, जो राग-द्वेष से रहित हो, स्वच्छन्द ।
 निर्धन—(सं.वि.) धनरहित, दरिद्र, कंगाल; -ता—(स्त्री.) दरिद्रता ।
 निर्धर्म—(सं. वि.) जो धर्म से रहित हो ।
 निर्धार—(सं. पुं.) निर्धारण, निश्चित करना, ठहराना ।
 निर्धारण—(सं.पुं.) निर्णय, निश्चय, न्याय के अनुसार किसी एक वर्ग आदि में से गुण, धर्म आदि का विचार करते हुए वहुतों में से एक को अलगाना ।
 निर्धारना—(हि.क्रि.स.) निर्धारित करना, निश्चित करना, ठहराना ।
 निर्धारित—(सं.वि.) निश्चित, ठहराया हुआ ।
 निर्धूत—(सं.वि.) खण्डित, टूटा हुआ, फेंका हुआ, छोड़ा हुआ, निन्दा किया हुआ ।
 निर्धूम—(सं. वि.) जहाँ धुआँ न हो ।
 निर्धोत—(सं. वि.) धुला हुआ, स्वच्छ किया हुआ ।
 निर्धमस्कार—(सं. वि.) प्रणामरहित ।
 निर्धर—(सं. वि.) मनुष्यशून्य, नररहित ।
 निर्धर—(सं. वि.) विना मालिक का ।

निर्नाभि—(सं. वि.) जिसको ढोंढ़ी न हो ।
 निर्नाशन—(सं. पुं.) निर्वासन, वहिष्कार ।
 निर्निमित्त—(सं. वि.) अकारण ।
 निर्निमेष—(सं. वि.) जो पलक न गिराता हो; (अव्य.) टकटकी लगाये हुये ।
 निर्निवार्य—(सं. वि.) अनिवार्य ।
 निर्नीड—(सं. वि.) आश्रयशून्य, विना घरद्वार का ।
 निर्पक्ष—(हिं. वि.) पक्षपातरहित ।
 निर्फल—(हिं. वि.) देखें 'निष्फल' ।
 निर्बंध—(सं. पुं.) आग्रह, हठ, रुकावट ।
 निर्बंधी—(सं. वि.) आवश्यक, आग्रही ।
 निबंधु—(सं. वि.) बंधुरहित, बंधुहीन ।
 निबंधुण—(सं. वि.) निर्दल ।
 निर्बल—(सं. वि.) बलहीन ।
 निर्बलता—(सं. स्त्री.) शक्तिहीनता ।
 निर्बहना—(हिं. क्रि. अ.) पार होना, दूर होना, अलग होना, पालन होना, निभना ।
 निर्वाचन—(हिं. पुं.) देखें 'निर्वाचन' ।
 निर्वाण—(हिं. पुं.) देखें 'निर्वाण' ।
 निर्वाध—(सं. वि.) विना प्रतिबन्ध का, निरुपद्रव ।
 निर्बुद्धि—(सं. वि.) बुद्धिहीन, मूर्ख ।
 निर्बाध—(सं. वि.) जिसको हिताहित का ज्ञान न हो, अज्ञानी ।
 निर्भट—(सं. वि.) दूढ़, पुष्ट ।
 निर्भय—(सं. वि.) भयरहित, जिसको कोई डर न हो, निडर; -ता—(स्त्री.) निडर होने की अवस्था ।
 निर्भर—(सं.वि.) ब्रहृत, अधिक, मिला हुआ, अवलंबित, आश्रित, भरा हुआ; (पुं.) वेतनशून्य भृत्य ।
 निर्भर्त्सन—(सं. पुं.) निन्दा, तिरस्कार, डाँट-डपट ।
 निर्भर्त्सना—(सं. स्त्री.) निन्दा ।
 निर्भर्त्सित—(सं. वि.) जिसकी निन्दा की गई हो ।
 निर्भाग्य—(सं. वि.) मन्दभाग्य, अभागा ।
 निर्भाग्य—(सं. वि.) जो भाग करने या बाँटने के योग्य न हो ।
 निर्भ्रम—(सं. वि.) अभिन्न, खण्डित ।
 निर्भीक—(सं.वि.) निःशंक, निडर, भयरहित ।
 निर्भीकता—(सं. स्त्री.) निर्भीक या निडर होने का भाव ।
 निर्भीत—(सं. वि.) भयरहित, निडर ।
 निर्भुज—(सं. वि.) जिसका एक छोर मुड़ा हो, विना हाथ का ।
 निर्भुति—(सं. पुं.) वेतनहीन भृत्य ।
 निर्भेद—(सं. पुं.) विदारण, फाड़ना ।
 निर्भेदी—(सं. वि.) भेद करनेवाला ।

निर्भेद्य—(सं. वि.) निर्भेद करने योग्य ।
 निर्भोग—(सं. वि.) संभोगरहित, सुखहीन ।
 निर्भ्रम—(सं. वि.) भ्रमररहित, जिसमें कोई सन्देह न हो; (अव्य.) विना सन्देह के, बेखटके ।
 निर्भ्रात—(सं. वि.) भ्रमररहित, जिसमें कोई सन्देह न हो ।
 निर्मंत्र—(सं.वि.) मन्त्रशून्य, विना मंत्र का ।
 निर्मथन—(सं.पुं.) अच्छी तरह मथना, मर्दन ।
 निर्भक्षिक—(सं. वि.) जिस देश में मक्खियाँ न हों, निर्जन देश ।
 निर्मज्ज—(सं. वि.) मज्जारहित ।
 निर्मत्सर—(सं. वि.) अहंकारहीन, विना घमंड का ।
 निर्मत्स्य—(सं.वि.) जिसमें सखलियाँ न हों ।
 निर्मद—(सं. वि.) निरभिमान, हर्षशून्य ।
 निर्मनुज, निर्मनुष्य—(सं. वि.) मनुष्यशून्य, निर्जन ।
 निर्मन्यु—(सं. वि.) क्रोधरहित ।
 निर्मम—(सं. वि.) जिसको ममता, करुणा या मोह न हो ।
 निर्ममता—(सं. स्त्री.) ममता का अभाव ।
 निर्ममत्व—(सं. पुं.) निर्ममता ।
 निर्मर्याद—(सं. वि.) विना मर्यादा का ।
 निर्मल—(सं. वि.) मलहीन, स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध, पापरहित, कलकहीन, निर्दोष; (पुं.) अत्रक, निर्मली का वृक्ष; -ता—(स्त्री.) विशुद्धता, स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता ।
 निर्मला—(हिं. पुं.) एक नानकंपथी संप्रदाय जिसके प्रवर्तक रामदास नामक एक महात्मा थे ।
 निर्मली—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का वृक्ष जिसके फल का गूदा खाया जाता है, (इसके बीज को घिसकर गँदले पानी में डाल देने से पानी स्वच्छ हो जाता है) ।
 निर्मलोपल—(सं.पुं.) स्फटिक, विल्लौर ।
 निर्मशक—(सं. वि.) मच्छड़रहित, जहाँ मच्छड़ न हों ।
 निर्मांस—(सं. वि.) जिसमें मांस न हो, अति दुर्बल ।
 निर्मा—(सं. स्त्री.) परिमाण, मल्य, दाम ।
 निर्माण—(सं.पुं.) बनाने का काम, रचना, बनावट; -विद्या—(स्त्री.) मकान, पुल आदि बनाने की विद्या, वास्तुविद्या ।
 निर्माता—(सं. पुं.) निर्माण करनेवाला, बनानेवाला ।
 निर्मात्रिक—(सं. वि.) विना मात्रा का, जिसमें मात्रा न हो ।
 निर्माना—(हिं.क्रि.स.) निर्माण करना, बनाना ।
 निर्मात्य—(सं. पुं.) देवता को अर्पित की ।

हुई वस्तु ।
 निर्मित—(सं. वि.) रचा हुआ, बनाया हुआ ।
 निर्मुक्त—(सं. वि.) जो मुक्त हो गया हो, जो छूट गया हो, जिसके लिये किसी प्रकार का बन्धन न हो ।
 निर्मुक्ति—(सं. स्त्री.) छुटकारा, मुक्ति ।
 निर्मुट—(सं. पुं.) सूर्य, खपड़ा, घूँत, शठ ।
 निर्मूल, निर्मूलक—(सं. वि.) मूलरहित, बिना जड़ का, जड़ से उखाड़ा हुआ, बिना आधार का, जो सर्वथा नष्ट हो गया हो ।
 निर्मूलन—(सं. पुं.) उत्पादन, उखाड़ना, निर्मूल होना या करना ।
 निर्मोघ—(सं. वि.) बिना बादल का ।
 निर्मोघ—(सं. वि.) बुद्धिहीन ।
 निर्मोक्ष—(सं. पुं.) साँप की केंचुली, मोचन, छुटकारा, आकाश, कवच ।
 निर्मोक्षता—(सं. वि.) मुक्त करनेवाला ।
 निर्मोक्ष—(सं. पुं.) त्याग, पूर्ण मोक्ष ।
 निर्मोच्य—(सं. वि.) मुक्ति पाने योग्य ।
 निर्मोल—(हिं. वि.) अमल्य, जिसका दाम बहुत अधिक हो ।
 निर्मोह—(सं. वि.) मोहशून्य, जिसके मन में मोह या ममता न हो; (पुं.) सावणि मनु के एक पुत्र का नाम ।
 निर्मोहिया—(हिं. वि.) जिसके मन में ममता या दया न हो, कठोर हृदय का ।
 निर्मोही—(हिं. वि.) निर्दय, कठोर हृदय का ।
 निर्यंत्रण—(सं. वि.) बाधारहित, उद्वण्ड ।
 निर्यन्त—(सं. वि.) यत्नशून्य, आलसी ।
 निर्याण—(सं. पुं.) मुक्ति, मोक्ष, अदृश्य होना, शरीर में से आत्मा का निकलना ।
 निर्यात—(सं. वि.) निगंत, निकला हुआ; (पुं) देश के बाहर मेजी हुई सामग्री; -कर—(पुं.) निर्यात पर लगनेवाला राज-कर ।
 निर्यातक—(हिं. वि., पुं.) निर्यात करनेवाला, देश का माल बाहर भेजनेवाला ।
 निर्यातन—(सं. पुं.) प्रतीकार, बदला चुकाना, धरोहर लौटा देना, ऋण चुकाना, मार डालना ।
 निर्याता—(सं. पुं.) कृषक, किसान ।
 निर्याति—(सं. स्त्री.) प्रस्थान ।
 निर्यास—(सं. पुं.) नाविक, मल्लाह, मांसी ।
 निर्यास—(सं. पुं.) कपाच, काड़ा, वृक्षों में से निकलनेवाला रस, गोंद, लाह, छाल ।
 निर्द्विषित—(सं. स्त्री.) असंयोग, युक्तिहीनता ।
 निर्दुय—(सं. वि.) यूथ या जुगुप् से अलग किया हुआ ।
 निर्दुय—(सं. पुं.) निर्यास, गोंद ।
 निर्दोष—(सं. पुं.) अलंकार, सजावट ।
 निर्दोष—(सं. वि.) धृष्ट, अप्रसिद्ध ।

निर्लक्ष्य—(सं. वि.) लक्ष्यहीन, जो दृष्टि पर न पड़े ।
 निर्लज्ज—(सं. वि.) लज्जाहीन ।
 निर्लज्जता—(सं. स्त्री.) लज्जाहीनता ।
 निर्लिंग—(सं. वि.) जिसमें कोई निश्चित लिंग या चिह्न न हो ।
 निर्लिप्त—(सं. वि.) राग-द्वेष आदि से मुक्त, जो किसी विषय में आसक्त न हो, जो किसी से संबंध न रखता हो ।
 निर्लुच—(सं. पुं.) लूट-मार करने का काम ।
 निर्लुठन—(सं. पुं.) अपहरण, लूटना ।
 निर्लुखन—(सं. पुं.) किसी वस्तु पर का मैल खुरचना ।
 निर्लोभ—(सं. वि.) जिसको लोभ या लालच न हो ।
 निर्लोभी—(हिं. वि.) लोभरहित ।
 निर्लोभा—(सं. वि.) जिसके रोएँ न हों ।
 निर्लोह—(सं. पुं.) बोल नामक गन्धद्रव्य ।
 निर्वंश—(सं. वि.) जिसके वंश में कोई संतति न हो; -ता—(स्त्री.) निर्वंश होने का भाव ।
 निर्वंशतव्य—(सं. वि.) निर्वान्य, प्रकट न करने योग्य ।
 निर्वचन—(सं. पुं.) किसी पद या वाक्य की ऐसी व्याख्या जिसम व्युत्पत्ति आदि का पूरा वर्णन हो; (वि.) वक्तव्यता-शून्य, मौन, प्रसिद्ध ।
 निर्वचनीय—(सं. वि.) निर्वचन करने योग्य ।
 निर्वपण—(सं. पुं.) अन्न आदि का संविभाग, दान ।
 निर्वयणी—(सं. स्त्री.) साँप की केंचुली ।
 निर्वर—(सं. वि.) निर्लज्ज, निर्मोघ, कठिन ।
 निर्वसन—(सं. वि.) वस्त्रहीन ।
 निर्वहण—(सं. पुं.) समाप्ति, निर्वाह ।
 निर्वहना—(हिं. क्रि. स.) निभाना, चलाना ।
 निर्वात—(सं. वि.) प्रेरित; मेजा हुआ ।
 निर्वाक्—(सं. वि.) वाक्यहीन, जिसके मुख से बात न निकलती हो ।
 निर्वाक्य—(सं. वि.) वाक्यहीन, गुंगा ।
 निर्वाच्य—(सं. वि.) निर्वचनीय ।
 निर्वाचक—(सं. पुं.) जो चुनता हो, चुननेवाला ।
 निर्वचन—(सं. पुं.) किसी सामाजिक कार्य के लिये अनेक व्यक्तियों में से एक या अधिक को प्रतिनिधि चुन लेना ।
 निर्वाचित—(सं. वि.) चुना हुआ ।
 निर्वाण—(सं. पुं) निवृत्ति, नास्ति, समाप्ति, विनाश, विघ्न, संगम, विभ्रान्ति, मुक्ति, जन्म शून्यता, विद्या का उपदेश; (वि.) अस्त, उखाड़ना, समाप्त होना, शान्त, मरा हुआ ।

निर्वात—(सं. वि.) वायुरहित, जहाँ हवा न हो, अचंचल, स्थिर ।
 निर्वाद—(सं. पुं.) अपवाद, निन्दा, अवज्ञा ।
 निर्वातर—(सं. वि.) जहाँ बंदर न हों ।
 निर्वाप—(सं. पुं.) दान, भक्षण, भोजन ।
 निर्वापण—(सं. पुं.) वय, दान, सम्पादन ।
 निर्वापित—(सं. वि.) जिसको निर्वाण मिला हो, नाश किया हुआ, बुझाया हुआ ।
 निर्वास—(हिं. पुं.) प्रवास, विदेश-यात्रा, निवासन, देश से निकाला जाना ।
 निर्वासक—(सं. पुं.) निर्वास करनेवाला ।
 निर्वासन—(सं. पुं.) मारण, वध, (नगर, देश, गाँव आदि से) दण्ड रूप में अपराधी का बाहर निकाला जाना, विसर्जन, निःसारण निकालना ।
 निर्वासनीय—(सं. वि.) देश से बाहर निकालने योग्य ।
 निर्वाह—(सं. पुं.) कार्य-सम्पादन, पालन, निर्वहण, समाप्ति, पूरा होना ।
 निर्वाहक—(सं. वि.) निवाहनेवाला, निर्वाह करनेवाला ।
 निर्वाहना—(हिं. क्रि. स.) निर्वाह करना निवाहना ।
 निर्वाहित—(सं. वि.) निवाहा हुआ ।
 निर्विकल्प—(सं. वि.) मद से रहित, निश्चित, स्थिर; -क—(वि.) विकल्परहित, (पुं.) दर्शन के अनुसार वह अवस्था जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय में भेद नहीं रह जाता तथा दोनों एक हो जाते हैं; -०समाधि—(स्त्री.) वह समाधि जिसमें ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता-तीनों का कोई भेद नहीं रह जाता और ज्ञानात्मक सच्चिदानन्द ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता पड़ता ।
 निर्विकार—(सं. पुं.) जिसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन न हो, परमात्मा; (वि.) विकारशून्य ।
 निर्विकास—(सं. वि.) अस्पष्ट, विषमरहित ।
 निर्विघ्न—(सं. वि.) जिसमें कोई विघ्न न हो, विघ्नरहित, बिना बाधा का ।
 निर्विचार—(सं. वि.) विचाररहित ।
 निर्विचेष्ट—(सं. वि.) अज्ञान, मूर्ख ।
 निर्वितर्क—(सं. वि.) विनाशपूर्ण; (पुं.) पाल-जल दर्शन के अनुसार एक प्रकार की समाधि ।
 निर्विद्य—(सं. वि.) विद्याहीन, जो पाल-लिया न हो ।
 निर्विभेद—(सं. वि.) भेदरहित, अमिश्र ।
 निर्विमर्श—(सं. वि.) निराशास्य ।
 निर्विरोध—(सं. वि.) अविनाशिक, विनाशरहित (के) ।

निर्विरोधी—(हिं. वि.) निर्विवादी, शान्त ।
 निर्विवर—(सं. वि.) छिद्रशून्य, विना छेद का ।
 निर्विवाद—(सं. वि.) कलहशून्य, विना झगड़े का ।
 निर्विवेक—(सं. वि.) विवेचनारहित, अविवेकी
 निर्विवेकता—(हिं. स्त्री.) निर्विवेक होने का भाव ।
 निर्विशक—(सं. वि.) निर्भय, निडर ।
 निर्विशक्ति—(सं. वि.) शंकाहीन. भ्रमरहित ।
 निर्विशेष—(सं. पुं.) परब्रह्म; (वि.) विशेषतारहित, तुल्यरूप ।
 निर्विष—(सं. वि.) विषरहित, जिसमें विष न हो ।
 निर्विषय—(सं. वि.) अगोचर, जो इन्द्रिय-ग्राह्य न हो ।
 निर्विषा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की घास ।
 निर्विषी—(सं. स्त्री.) अष्टवर्ग जाति की एक ओषधि जिसकी जड़ का प्रयोग अनेक विषों के नाश करने में किया जाता है ।
 निर्विषट—(सं. वि.) कृतभोग, कृतविवाह, मुक्त, छोड़ा हुआ ।
 निर्वीज—(सं. वि.) बीजशून्य, जिसमें बीज न हो, कारणहीन; (पुं.) एक प्रकार की समाधि का नाम ।
 निर्वीजा—(सं. स्त्री.) किशमिश नामक मेवा ।
 निर्वीर—(सं. वि.) प्रभुताहीन, वीरताशून्य ।
 निर्वीरा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका पति और पुत्र न हो ।
 निर्वीर्य—(सं. वि.) वीर्यहीन, तेजरहित ।
 निर्वृक्ष—(सं. वि.) वृक्षशून्य, विना वृक्ष का ।
 निर्वृत—(सं. वि.) प्रसन्न ।
 निर्वृत्ति—(सं. स्त्री.) मोक्ष, मृत्यु, शान्ति, आनन्द ।
 निर्वृत्त—(सं. वि.) निष्पन्न, जो पूरा हो गया हो ।
 निर्वृत्ति—(सं. वि.) जीविकारहित, जीविकाहीन ।
 निर्वृष—(सं. वि.) विना वर्षा का, विना बँल का ।
 निर्वैग—(सं. वि.) गतिहीन, स्थिर ।
 निर्वैतन—(सं. वि.) वेतनहीन ।
 निर्वद—(सं. पुं.) अपमान, वैराग्य, दुःख, खेद; (वि.) वेदरहित ।
 निर्वेश—(सं. पुं.) वेतन, मूर्च्छा, विवाह ।
 निर्वेशनीय—(सं. वि.) भोग्य, प्राप्त करने योग्य ।
 निर्वैष्टन—(सं. वि.) वेष्टनरहित, विना ढपने का ।
 निर्विर—(सं. वि.) शत्रुभाव-वर्जित, मित्र-सा ।

निर्वोध—(सं. वि.) ज्ञानहीन, मूर्ख ।
 निर्व्यथ—(सं. वि.) व्यथा या पीड़ा से रहित ।
 निर्व्यथन—(सं. वि.) जिसको व्यथा या पीड़ा न हो; (पुं) छेद ।
 निर्व्यपेक्ष—(सं. वि.) निरपेक्ष ।
 निर्व्याकुल—(सं. वि.) जो घबड़ाया न हो, स्थिरचित्त ।
 निर्व्याघ्र—(सं. वि.) जहाँ व्याघ्र का भय न हो ।
 निर्व्याज—(सं. वि.) छलरहित, बाधा-रहित, विना कपट का ।
 निर्व्याधि—(सं. वि.) व्याधिमुक्त, आरोग्य, चंगा ।
 निर्व्यापार—(सं. वि.) विना कामकाज का ।
 निर्व्यर्ह—(सं. वि.) निष्पन्न, समाप्त, स्थिर ।
 निर्व्रण—(सं. वि.) व्रणरहित, जिसको घाव न हों ।
 निर्व्रत—(सं. वि.) व्रत तथा आचार-हीन ।
 निर्व्रण—(सं. पुं.) दहन, नाश करने का काम ।
 निर्व्रणीय—(सं. वि.) निर्व्रण करने योग्य ।
 निर्व्रस्त—(सं. वि.) विना हाथ का, हस्तशून्य ।
 निर्व्रिहस—(सं. वि.) हिमशून्य, जहाँ बरफ न गिरती हो ।
 निर्व्रत—(सं. वि.) निकाला या हटाया हुआ ।
 निर्व्रति—(सं. स्त्री.) अपने स्थान से हटाया जाना ।
 निर्व्रतु—(सं. वि.) कारणहीन, जिसमें हेतु या कारण न हो ।
 निर्व्रिक—(सं. वि.) निर्भीक, साहसी ।
 निर्व्रज्ज—(हिं. वि.) देखें 'निर्व्रज्ज' ।
 निर्व्रज्जता—(हिं. स्त्री.) निर्व्रज्जता ।
 निर्व्रज्जी—(हिं. वि.) निर्व्रज्ज ।
 निर्व्रय—(सं. पुं.) गृह, घर, मकान, आश्रय-स्थान ।
 निर्व्रयन—(सं. पुं.) बैठने का स्थान, सम्बन्ध ।
 निर्व्रहा—(हिं. वि.) नीलवाला, नील-सम्बन्धी ।
 निर्व्राम—(हिं. पुं.) देखें 'नीलाम' ।
 निर्व्रिप—(सं. पुं.) देवता ।
 निर्व्रिपा—(सं. स्त्री.) गाय, दूध दूहने का पात्र ।
 निर्व्रलीन—(सं. वि.) लीन, छिपा हुआ, संलग्न ।
 निर्व्रछावर—(हिं. स्त्री.) देखें 'निर्व्रछावर' ।
 निर्व्रडिया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की नाव ।
 निर्व्रता—(हिं. वि.) (वह) जो नीचे झुका हो ।
 निर्व्रर—(सं. वि.) निवारक, हटानेवाला ।
 निर्व्ररा—(सं. स्त्री.) अविवाहिता या कुमारी कन्या ।
 निर्व्रर्त—(सं. वि.) हटाया हुआ, लौटाया हुआ ।
 निर्व्रर्तक—(सं. वि.) प्रतिबंधक, रोकनेवाला ।
 निर्व्रर्तन—(सं. पुं.) रोकना, पीछे हटाना या लौटाना ।

निर्व्रर्तनीय—(सं. वि.) लौटाने योग्य, पीछे हटाने योग्य ।
 निर्व्रर्तमान—(सं. वि.) जो लौट रहा हो ।
 निर्व्रर्तित—(सं. वि.) लौटाया हुआ ।
 निर्व्रर्हण—(सं. वि.) उत्सन्न, ध्वस्त ।
 निर्व्रसति—(सं. स्त्री.) घर, मकान ।
 निर्व्रसथ—(सं. पुं.) गाँव, सीमा, हद ।
 निर्व्रसन—(सं. पुं.) घर, वस्त्र, कपड़ा ।
 निर्व्रसना—(हिं. क्रि. अ.) बसना, रहना, निवास करना ।
 निर्व्रस्तव्य—(सं. वि.) निर्वाह करने योग्य ।
 निर्व्रह—(सं. पुं.) समूह, यूथ, फलित ज्योतिष के अनुसार सातवें वायु के अन्त-गंत एक वायु ।
 निर्व्रवाई—(हिं. वि.) नया, विलक्षण, अनोखा ।
 निर्व्रवाज—(हिं. वि.) अनुग्रह करनेवाला, कृपा करनेवाला ।
 निर्व्रवाजना—(हिं. क्रि. अ.) अनुग्रह करना, कृपा करना ।
 निर्व्रवाड़—(हिं. स्त्री.) देखें 'निवार' ।
 निर्व्रवाड़ा—(हिं. पुं.) छोटी नाव, नदी के बीच घारा में नाव ले जाकर उसको चक्कर देने की क्रीड़ा ।
 निर्व्रवात—(सं. पुं.) आश्रय, निवास; (वि.) वातशून्य; -कवच- (पुं.) एक दैत्य का नाम ।
 निर्व्रवान—(हिं. पुं.) नीची भूमि जो कीचड़ या दलदल से भरी हो, बड़ा तालाव, झील ।
 निर्व्रवाना—(हिं. क्रि. स.) झुकाना, नीचे की ओर करना ।
 निर्व्रवान्या—(सं. स्त्री.) वह गाय जिसका वच्चा मर गया हो और दूसरे बछड़े को पिलाकर दूही जाती हो ।
 निर्व्रवापक—(सं. वि.) बीज बोनेवाला ।
 निर्व्रवापी—(हिं. पुं.) बोनेवाला ।
 निर्व्रवार—(सं. पुं.) निवारण, बाधा; (हिं. स्त्री.) कुएँ की नीचे में बैठाने का लकड़ी का गोल चक्कर, तिल्ली का घान, एक प्रकार की मूली ।
 निर्व्रवारक—(सं. वि.) रोकनेवाला, दूर करनेवाला, अवरोधक, मिटानेवाला ।
 निर्व्रवारण—(सं. पुं.) निवृत्ति, छुटकारा, बचाने, हटाने या दूर करने की क्रिया ।
 निर्व्रवारणीय—(सं. वि.) रोकने या हटाने योग्य बचाने योग्य ।
 निर्व्रवारन—(हिं. पुं.) देखें 'निवारण' ।
 निर्व्रवारना—(हिं. क्रि. स.) निषेध करना, मना करना, बचाना, हटाना, दूर करना ।
 निर्व्रवारी—(हिं. स्त्री.) जूही की जाति का एक पौधा, इस पौधे का सफेद फूल ।
 निर्व्रवास—(सं. पुं.) रहने का स्थान, आश्रय,

गृह, घर, वस्त्र, कपड़ा;—स्थान—(पुं.)
रहने का स्थान, घर।
निवासी—(सं.वि.) बसनेवाला, रहनेवाला।
निवास्य—(सं. वि.) रहने योग्य, कपड़े से
ढपा हुआ।
निविड़—(सं. वि.) गहरा, घना, अविरल,
गाढ़ा;—त्ता—(स्त्री.) गहरापन, घनापन।
निविष्ट—(सं. वि.) प्रविष्ट, घुसा हुआ,
बँधा हुआ, ठहरा हुआ, स्थित, लपेटा
हुआ, जिसका चित्त एकाग्र हो।
निवीर्य—(सं. वि.) वीर्यहीन, जिसमें पुरुषत्व
न हो।
निवृत—(सं. वि.) धिरा हुआ, बाहर से
ढपा हुआ।
निवृत्त—(सं. पुं.) मुक्ति, छुटकारा,
निवृत्तिपूर्वक कर्म; (वि.) विरक्त,
छूटा हुआ, जो छुट्टी पा गया हो।
निवृत्तात्मा—(सं. वि.) जो विषय-वासना
से निवृत्त हो; (पुं.) विष्णु, महादेव, शिव।
निवृत्ति—(सं. स्त्री.) मुक्ति, छुटकारा,
मोक्ष।
निवेदक—(सं. वि.) निवेदन करनेवाला।
निवेदन—(सं. पुं.) समर्पण, प्रार्थना, विनय,
विनती।
निवेदना—(हिं. क्रि. स.) विनती करना,
प्रार्थना करना, किसी देवता के आग
कुछ नैवेद्य रखना, अर्पित करना।
निवेदनीय—(सं. वि.) निवेदन करने योग्य।
निवेदित—(सं. वि.) निवेदन किया हुआ,
कहा हुआ, अर्पण किया हुआ, चढ़ाया
हुआ, दिया हुआ।
निवेदी—(सं. वि.) निवेदन करनेवाला,
प्रार्थी।
निवेद्य—(सं. वि.) निवेदन करने योग्य।
निवेदना—(हिं. क्रि. स.) निवेदना, तय करना।
निवेरा—(हिं. वि.) छाँटा हुआ, चुना हुआ,
अनोखा।
निवेश—(सं. पुं.) विन्यास, विवाह, शिविर,
डैरा, प्रवेश, घर, खेमा।
निवेशन—(सं. पुं.) स्थापन, स्थिति,
प्रवेश, नगर।
निवेशनीय—(सं. वि.) निवेशन करने योग्य।
निवेशित—(सं. वि.) स्थापित, प्रवेशित।
निवेश्य—(सं. वि.) निवेश करने योग्य।
निवेष्टन—(सं. पुं.) वस्त्र द्वारा आच्छा-
दन, कपड़े से ढाँपने का कार्य।
निवेष्टव्य—(सं. वि.) ढाँपने योग्य।
निवेष्ट्य—(सं. पुं.) व्याप्ति, आवर्त, पानी
का भँवर, नीहारजल, रुद्र; (वि.)
व्याप्त, फैला हुआ।

निव्यूढ—(सं. पुं.) निरन्तर परिश्रम।
निशंक—(हिं. वि.) जिसको किसी बात
की शंका या डर न हो, निर्भय, निडर;
(पुं.) एक प्रकार का नाच।
निशंग—(हिं. पुं.) देखें 'निपंग'।
निश—(हिं. स्त्री.) देखें 'निश', रात्रि।
निशांत—(सं. पुं.) घर, पिछली रात,
प्रमात, तड़का; (वि.) अति शान्त।
निशांथ—(सं. वि. पुं.) (वह) जिसको रात में न
सूझता हो, जिसको रतींधी हुई हो।
निशा—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात, हरिद्रा, हलदी।
निशाकर—(सं. पुं.) चन्द्रमा, कुक्कुर,
मुरगा, कपूर, एक महर्षि का नाम,
शिव, महादेव।
निशाचर—(सं. पुं.) राक्षस, सियार, उल्लू,
सर्प, चोर, विल्ली, प्रेत, भूत, चक्रवाक
पक्षी, महादेव, चोरक नाम का गन्धर्व्य;
(वि.) रात को निकलनेवाला;—पति—
(पुं.) शिव, महादेव, रावण।
निशाचरी—(सं. स्त्री.) कुलटा, राक्षसी,
अमिसारिका, नायिका; (पुं.) शिव,
निशाचर।
निशाचर्म—(सं. पुं.) अंबकार, अँधेरा।
निशाजल—(सं. पुं.) हिम, पाला, ओस।
निशाट—(सं. पुं.) उल्लू पक्षी; (वि.)
निशाचर।
निशाटक—(सं. पुं.) गुग्गुलु; (वि.) रात
को बूमनेवाला।
निशाटन—(सं. पुं.) रात के समय में
भ्रमण, उल्लू।
निशात्यय—(सं. पुं.) प्रमात, नवेरा।
निशाद—(सं. वि.) केवल रात में खानेवाला।
निशाद्शिन्—(सं. पुं.) उल्लू पक्षी।
निशाधीश—(सं. पुं.) निशापति, चन्द्रमा।
निशान—(क्रा. पुं.) लक्षण, चिन्ह, वाग।
निशानाय—(सं. पुं.) निशापति, चन्द्रमा, कपूर।
निशापति—(सं. पुं.) चन्द्रमा।
निशापुत्र—(सं. पुं.) नक्षत्र आदि आकाशीय
पिण्ड।
निशापुष्प—(सं. पुं.) कुमुद, कुई।
निशाप्राणेश्वर—(सं. पुं.) निशापति, चन्द्रमा।
निशापल—(सं. पुं.) ज्यामिषि के अनुसार वे
रात्रियाँ जो रात में अधिक चलती होती हैं।
निशाभना—(सं. स्त्री.) कुक्कुरी नामक
पीथा।
निशाभाग—(सं. पुं.) रात्रि, रात।
निशाभणि—(सं. पुं.) चन्द्रमा, कपूर।
निशाभय—(सं. पुं.) शिव, महादेव।
निशाभूत—(सं. पुं.) गीर्वाण, प्रदाय-तला
निशाभृग—(सं. पुं.) भृगु, विमान।

निशापी—(सं. वि.) निद्रागत, सोया हुआ।
निशारण—(सं. पुं.) रात्रि में युद्ध, रात के
समय की लड़ाई।
निशारत्न—(सं. पुं.) चन्द्रमा, कपूर, कपूर।
निशास्क—(सं. पुं.) एक प्रकार के ताल
का नाम; (वि.) हिता करनेवाला।
निशासन—(सं. पुं.) सन का पीथा।
निशावसान—(सं. पुं.) रात का अन्त-भाग,
तड़का।
निशाविहार—(सं. पुं.) राक्षस।
निशावृन्द—(सं. पुं.) रात्रि-पुंज, रात्रि-समूह
निशावेदिन्—(सं. पुं.) कुक्कुर, मुरगा।
निशाहंस—(सं. पुं.) कुमुदिनी, कुई।
निशि—(सं. स्त्री.) रजनी, रात, हरिद्रा,
हलदी;—कर—(पुं.) चन्द्रमा, रात्रि;
—चर—(पुं.) निशाचर;—दिन—
(अव्य.) रात-दिन, सर्वदा;—नाय,
—नायक,—पति,—पाल—(पुं.) चन्द्रमा,
एक प्रकार का छन्द;—पालक—(पुं.)
रात को पहरा देनेवाला, द्वाखाल;
एक प्रकार का वर्णवृत्त;—पुष्पा—
(स्त्री.) निर्गुण्डी लता;—वासर—
(अव्य.) रात-दिन, सर्वदा।
निशीय—(सं. पुं.) रात्रि, रात, आवी रात।
निशीथिनी—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात;—नाय
—(पुं.) चन्द्रमा, कपूर;—वल्लभ—(पुं.)
चन्द्रमा।
निशुभ—(सं. पुं.) हिंसा, वध, एक अनुर
जो दुर्गा के हाथों से मारा गया था।
निशुभन—(सं. पुं.) वध, मार डालना।
निशुभमर्दिनी—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी।
निशुभिन्—(सं. वि.) नाश करनेवाला।
निशुत्य—(सं. वि.) उपनीत, लाना हुआ।
निशेश—(सं. पुं.) निशिकर, चन्द्रमा।
निशैत—(सं. पुं.) वक्र, वगुला।
निशीत्तार्य—(सं. पुं.) प्रमात, तड़का।
निशोपशय—(सं. वि.) रात में विश्राम।
करनेवाला।
निशु—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात, हरिद्रा, हलदी
निशुल्ला—(सं. वि. स्त्री.) अपने कुण्ड से
निकली हुई।
निश्चन्द्र—(सं. वि.) चन्द्रमारहित, जिसमें
चाँद न हो।
निश्चक्षु—(सं. वि.) नेत्रहीन, अंधा।
निश्चय—(सं. पुं.) ऐसी धारणा जिसमें
किसी प्रकार का संदेह न हो, निर्भय,
विश्वास, दृढ़ता, परता, निश्चय,
वह अनिश्चित जिसमें अल्प निश्चय का
निश्चय होकर कर्तव्य निश्चय का मान
होता है; (अव्य.) अन्तर।

निश्चयात्मक—(सं.वि.) विना सन्देह का, निश्चित, निश्चय-संबंधी ।
 निश्चयात्मकता—(सं. स्त्री.) असन्दिग्धता, यथार्थता ।
 निश्चयित—(सं. वि.) स्थिर किया हुआ, ठीक किया हुआ, विचारा हुआ ।
 निश्चल—(सं. वि.) स्थिर, जो हिलता-डोलता न हो, अचल, जो अपने स्थान से न हटे;—ता—(स्त्री.) दृढ़ता स्थिरता ।
 निश्चलांग—(सं. पुं.) बक, बगला; (वि.) जो हिलता-डोलता न हो ।
 निश्चला—(सं. स्त्री.) शालपर्णी, पृथ्वी ।
 निश्चायक—(सं.वि.) निश्चय करनेवाला ।
 निश्चितई—(हि.स्त्री.), निश्चितता—(सं. स्त्री.) निश्चित होने का भाव ।
 निश्चित—(सं. वि.) निश्चय किया हुआ, तय किया हुआ ।
 निश्चित—(सं. वि.) चिन्तारहित ।
 निश्चुक्कण—(सं.पुं.) दाँतों में लगाने की मिस्सी ।
 निश्चेतन—(सं. वि.) चैतन्यशून्य ।
 निश्चेतस्—(सं. वि.) चेतनारहित, बेसुध ।
 निश्चेष्ट—(सं. वि.) चेष्टाहीन, असहाय, निश्चल, स्थिर, अचेत ।
 निश्चेष्टा—(सं. स्त्री.) निश्चलता ।
 निश्चेष्टाकरण—(सं. पुं.) कामदेव के एक वाण का नाम ।
 निश्चै—(हि. पुं.) देखें 'निश्चय' ।
 निश्चौर—(सं. वि.) वह स्थान जहाँ से डाकूओं ने अपना अड्डा हटा लिया हो ।
 निश्छेद—(सं. वि.) जिसन वेद का अध्ययन न किया हो, छलरहित, निष्कपट ।
 निश्छिद्र—(सं.वि.) विना छेद का, छिद्रशून्य ।
 निश्छेद—(सं.वि.) गणित में अविभाज्य राशि ।
 निश्चम—(सं. पुं.) किसी काम में न थकना या घबड़ाना ।
 निश्चमणी—(सं. स्त्री.) सोपान, सीढ़ी ।
 निश्चावी—(सं. वि.) नाश होनेवाला ।
 निश्चैणी—(सं.स्त्री.) सोपान, सीढ़ी, मुक्ति ।
 निश्चैयमु—(हि. पुं.) दुःख का अभाव, कल्याण, मोक्ष ।
 निश्वास, निश्वास—(सं.पुं.) दीर्घ निश्वास, आह भरना ।
 निश्शक—(सं. वि.) निर्भय, निडर, सन्देह-रहित, जिसमें शंका न हो ।
 निश्शक्त—(सं. वि.) शक्तिहीन, निर्बल ।
 निश्शील—(सं. वि.) दुरे स्वभाव का ।
 निश्शीलता—(सं. स्त्री.) दुष्ट स्वभाव ।
 निश्शेष—(सं. वि.) जिसमें कुछ बाकी न बचा हो ।

निषंग—(सं. पुं.) तूणीर, तरकश, खड्ग, मुंह से फूँककर वजान का एक प्राचीन वाजा ।
 निषकपुत्र—(सं. पुं.) निशाचर, राक्षस ।
 निषकर्ष—(सं.पुं.) स्वरसाधन की एक प्रणाली ।
 निषक्त—(सं. पुं.) जनक, पिता, बाप ।
 निषण्ण—(सं. वि.) उपविष्ट, स्थित, बैठा हुआ ।
 निषद—(सं. पुं.) संगीत का निषाद स्वर, एक राजा का नाम ।
 निषदन—(सं. पुं.) गृह, घर ।
 निषद्—(सं. स्त्री.) यज्ञ की दीक्षा ।
 निषद्या—(सं. स्त्री.) हाट, छोटी खटिया ।
 निषद्वर—(सं.पुं.) कीचड़, चहला ।
 निषद्वरी—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात ।
 निषध—(सं. पुं.) एक प्राचीन पर्वत का नाम, राजा जनमेजय के पुत्र का नाम, एक प्राचीन देश का नाम जो विन्ध्य पर्वतांचल में था, निषध देश के राजा का नाम, कुरु के एक पुत्र का नाम, रघुवंशीय रामात्मज कुश के पौत्र का नाम; (वि.) कठिन ।
 निषधाधिप—(सं. पुं.) निषध देश के राजा का नाम ।
 निषधाधिपति—(सं. पुं.) राजा नल ।
 निषधाश्व—(सं.पुं.) कुरु के एक पुत्र का नाम ।
 निषाद—(सं. पुं.) एक अनार्य जाति जो भारतवर्ष में आर्यों के पहिले या पूर्व रहती थी, (रामायण के अनुसार शृंगवेर-पुर में निषादराज की राजधानी थी), संगीत में सात स्वरों में से अन्तिम तथा सब से ऊँचा स्वर ।
 निषादित—(सं. वि.) उपवेशित, बैठाया हुआ ।
 निषादी—(सं. पुं.) हाथीवान, महावत; (वि.) उपविष्ट, बैठा हुआ ।
 निषिक्तता—(सं. वि.) गर्भ की रक्षा करने की क्रिया ।
 निषिद्ध—(सं. वि.) जिसका निषेध किया गया हो, जो करने योग्य न हो, दूषित ।
 निषिद्धि—(सं. स्त्री.) निषेध, मनाही ।
 निषेक—(सं.पुं.) गर्भाधान, जल से सिचाई, चूना, टपकना ।
 निषेक्य—(सं. वि.) सींचने योग्य ।
 निषेचन—(सं. पुं.) सींचना, तर करना, सिगाना ।
 निषेध—(सं. पुं.) वर्जन, वाधा, रुकावट, निवर्तन, वारण ।
 निषेधक—(सं.वि.) निवारक, रोकनेवाला ।
 निषेधन—(सं. पुं.) निषेध, निवारण,

मना करना ।
 निषेध-पत्र—(सं. पुं.) वह पत्र जिसके द्वारा किसी प्रकार का निषेध किया जाय ।
 निषेध-विधि—(सं. पुं.) वह आज्ञा जिसके द्वारा किसी बात का निषेध किया जाय ।
 निषेधित—(सं. वि.) निवारित, निषेध किया हुआ, मना किया हुआ ।
 निषेधी—(सं. वि.) निषेध करनेवाला ।
 निषेधाभास—(सं. पुं.) आक्षेप अलंकार के पाँच भेदों में से एक ।
 निषधोक्ति—(सं. स्त्री.) निषेध-वाक्य ।
 निषेव—(सं. वि.) अनुरक्त, अभ्यासशील; (पुं.) अनुसरण, पूजा ।
 निषेवण—(सं. पुं.) सेवा, व्यवहार ।
 निषेवणीय—(सं.वि.) सेवा करने योग्य ।
 निषेवितव्य—(सं. वि.) सेवनीय, सेवा करने योग्य ।
 निषेवी—(सं. वि.) सुखमोगी, अनुरक्त ।
 निषेव्य—(सं. वि.) सेवनीय, सेवा करने योग्य ।
 निष्कंठक—(सं. वि.) बाधारहित, कंटक-हीन, उपद्रवरहित, जिसमें काँटा न हो, निर्विघ्न, उपसर्गहीन ।
 निष्कंठ—(सं. पुं.) वरुण नामक वृक्ष ।
 निष्कंद—(सं. वि.) जो (कंद) खाने योग्य न हो ।
 निष्कंप—(सं. वि.) कंपहीन, जिसमें किसी प्रकार का कंप न हो ।
 निष्कंध—(सं.पुं.) गरुड़ के एक पुत्र का नाम ।
 निष्क—(सं. पुं.) वैदिक काल की एक प्रकार की सोने की मुद्रा, सुवर्ण, सोना, हीरा, एक प्रकार का गले का आमूषण, सोने का पात्र, वैद्यक में चार मात्रों की तौल, चौदी तौलने की प्राचीन काल की एक तौल जो चार सोने की मुद्राओं के बराबर होती थी;—कंठ—(वि.) जिसके गले में सोने का गहना हो;—ग्रीव—(वि.) देखें 'निष्ककंठ' ।
 निष्कनिष्ठ—(सं. वि.) जिसकी कानी अँगुली कट गई हो ।
 निष्कपट—(सं. वि.) निश्छल, जो किसी प्रकार का छल न जानता हो;—ता (स्त्री.) सरलता, निश्छलता ।
 निष्कपटी—(हि. वि.) निष्कपट ।
 निष्कर—(सं.वि.) वह भूमि जिसका कर न देना पड़ता हो ।
 निष्करुण—(सं. वि.) दयारहित ।
 निष्करूप—(सं. वि.) परिष्कृत, स्वच्छ ।
 निष्कर्म—(सं. वि., पुं.) (वह) जो किसी काम में लिप्त न हो ।

निष्कर्मण्य—(सं. वि.) अयोग्य, निकम्मा ।
 निष्कर्मा—(सं. वि.) अकर्मा, बालसी ।
 निष्कर्ष—(सं. पुं.) निरचय, सारांश, सार,
 निचोड़ निकालने की क्रिया ।
 निष्कर्षण—(सं.पुं.) निकालना, बाहर करना,
 निःसारण, बाहर निकालने की क्रिया ।
 निष्कलंक—(सं. वि.) जिसमें किसी प्रकार
 का कलंक न हो, निर्दोष ।
 निष्कल—(सं. वि.) भाग या कलारहित,
 निरखयव, जिसका कोई अंग या भाग
 नष्ट हो गया हो, नष्टवीर्य, नपुंसक,
 संपूर्ण, समूचा; (पुं.) ब्रह्मा ।
 निष्कलत्व—(सं. पुं.) अविभाज्य होने
 की अवस्था, परमाणु की वह अवस्था
 जिसमें उसके और भाग न हों सकें ।
 निष्कला—(सं. स्त्री.) वृद्धा स्त्री, बुढ़िया ।
 निष्काली—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका
 मासिक धर्म बंद हो गया हो ।
 निष्कलमय—(सं. वि.) कलंकहीन, पापरहित ।
 निष्कपाय—(सं. वि.) जिसका चित्त पवित्र
 और स्वच्छ हो ।
 निष्काम—(सं. वि.) कामनारहित, जो
 बिना किसी प्रकार की कामना या इच्छा
 से किया जाय; -ता—(स्त्री.) निष्काम
 होने की अवस्था या भाव ।
 निष्कामी—(सं. वि.) कामनारहित,
 जिसको किसी प्रकार की आसक्ति न हो ।
 निष्कारण—(सं. वि.) बिना कारण, व्यर्थ
 निष्कालन—(सं. पुं.) मारण, मार डालने
 की क्रिया, निकालना ।
 निष्काश—(सं. पुं.) निष्कासन, ओसारा ।
 निष्काशन—(सं. पुं.) निःसारण, बाहर करना ।
 निष्काशित—(सं. वि.) वहिष्कृत, निकाला
 हुआ, निन्दित ।
 निष्कास—(सं. पुं.) घर का ओसारा ।
 निष्कासन—(सं. पुं.) बाहर करना, निकालना ।
 निष्कासित—(सं. वि.) निःसारित, बाहर
 निकाला हुआ, निन्दा किया हुआ ।
 निष्किञ्चन—(सं. वि.) धनहीन, दरिद्र ।
 निष्किल्बिष—(सं. वि.) पापशून्य, पाप-रहित ।
 निष्कीर्ण—(सं. वि.) निकाला हुआ ।
 निष्कुट—(सं. पुं.) घर के पास का बगीचा,
 कपाट, किवाड़, अन्त-पुर ।
 निष्कुटिका—(सं. स्त्री.) एक मातृका का नाम ।
 निष्कुटी—(सं. स्त्री.) एला, इलायची ।
 निष्कुतूहल—(सं. वि.) जिसको कोई
 कुतूहल न हो ।
 निष्कुल—(सं. वि.) सपिण्डादि कुलरहित ।
 निष्कुपित—(सं. वि.) निःमांसित, निकाला
 हुआ ।

निष्कुह—(सं. पुं.) वृक्ष का कोटर या खोंडर ।
 निष्कृत—(सं. वि.) मुक्त किया हुआ,
 हटाया हुआ, मृत, मरा हुआ ।
 निष्कृति—(सं. स्त्री.) निस्तार, छुटकारा ।
 निष्कौषण—(सं. पुं.) भीतरी अवयव का
 बाहर निकलना ।
 निष्क्रम—(सं. पुं.) घर से बाहर निकलने
 का कार्य, पतित होना; (वि.) बिना क्रम का ।
 निष्क्रमण—(सं. पुं.) घर से बाहर निकलना,
 बाहर संस्कारों में से एक संस्कार जो बालक
 के चार महीने का होने पर होता है ।
 निष्क्रम्य—(सं. पुं.) वेतन, विक्री, सामर्थ्य,
 शक्ति, पुरस्कार, प्रत्युपकार ।
 निष्क्रिय—(सं. वि.) व्यापारशून्य, जो
 कोई काम न करता हो ।
 निष्क्रियता—(सं. स्त्री.) निष्क्रिय होने
 का भाव या अवस्था ।
 निष्क्रीति—(सं. स्त्री.) मुक्ति, मोक्ष ।
 निष्क्रोष—(सं. वि.) जिसको क्रोध न हो ।
 निष्कलेश—(सं. वि.) सब प्रकार के कष्टों
 से मुक्त ।
 निष्पि—(सं. स्त्री.) कश्यप की एक पत्नी
 का नाम ।
 निष्पदुर—(सं. वि.) शत्रु को विजय करने-
 वाला ।
 निष्प—(सं. वि.) स्थित, ठहरा हुआ,
 तत्पर, लगा हुआ, जिसमें किसी के प्रति
 श्रद्धा या शक्ति हो ।
 निष्ठा—(सं. स्त्री.) निश्चय, समाप्ति,
 नाश, सिद्धावस्था, अन्तिम स्थिति जिसमें
 आत्मा और ब्रह्म की एकता हो जाती है,
 चिकित्सा, स्थिति के आधार विष्णु,
 स्थिति, अवस्था, निरखय, धर्मादि में
 श्रद्धा, निर्वाह ।
 निष्ठावत्, निष्ठावान्—(सं. वि.) निष्ठा-
 युक्त, जिसमें श्रद्धा हो ।
 निष्ठील—(सं. वि.) दृढ़, ठहरा हुआ,
 जिसमें निष्ठा या श्रद्धा हो ।
 निष्ठीव, निष्ठीवन—(सं. पुं.) धूक, गन्धार ।
 निष्ठुर—(सं. वि.) कठिन, कठोर, कुर ।
 निष्ठुरता—(सं. स्त्री.) कठोरता, निर्दयता,
 क्रूरता, कड़ाई ।
 निष्ठीव—(सं. पुं.) देतों 'निष्ठीव' ।
 निष्ण—(सं. वि.) चतुर, कुशल ।
 निष्णात—(सं. वि.) किसी विषय में निष्ण,
 चतुर, प्रधान, श्रेष्ठ ।
 निष्पद—(सं. वि.) रंजनरहित, जिसमें
 किसी प्रकार का रंग न हो ।
 निष्पंक—(सं. वि.) बिना रंग का,
 निर्मल ।

निष्पद्व—(सं. वि.) पकाया हुआ, उबाला
 हुआ ।
 निष्पक्ष—(सं. वि.) पक्षपातरहित, जो
 किसी का पक्षपात न करता हो; -ता—
 (स्त्री.) निष्पक्ष होने का भाव ।
 निष्पतन—(सं. पुं.) निर्गमन, बाहर
 निकलना ।
 निष्पत्ति—(सं. स्त्री.) समाप्ति, सिद्धि, परि-
 पाक, अन्त. निर्वाह, भीमांसा, निश्चय,
 चुकता, हठ-योग के अनुसार नाद की
 अन्तिम अवस्था, गणित में अनुपात ।
 निष्पन्न—(सं. वि.) पत्रहीन, बिना पत्तों का ।
 निष्पत्रिका—(सं. स्त्री.) करील का वृक्ष ।
 निष्पद—(सं. वि.) बिना पैर या पहिये का ।
 निष्पन्न—(सं. वि.) जो समाप्त या पूरा
 हो चुका हो ।
 निष्पराक्रम—(सं. वि.) शक्तिहीन, निर्बल ।
 निष्परिग्रह—(सं. वि.) जिसके पास कोई
 समाप्ति न हो, जो दान आदि न लेता हो,
 जिसको स्त्री न हो, अविवाहित, कुँआरा ।
 निष्परिच्छद—(सं. वि.) बिना कपड़ा
 पहिने हुए, बिना वस्त्र का ।
 निष्परिदाह—(सं. वि.) जो सहज में जल
 न सके ।
 निष्परीक्षित—(सं. वि.) जिसकी परीक्षा
 न की गई हो ।
 निष्परय—(सं. वि.) जो सुनने में कर्कश
 न हो ।
 निष्पाद—(सं. पुं.) मटर, बोड़ा, सेम ।
 निष्पादित—(सं. वि.) सम्पादित, निष्पन्न ।
 निष्पाद्य—(सं. वि.) निष्पादन करन योग्य ।
 निष्पिष्ट—(सं. वि.) चूणित, चूर किया हुआ ।
 निष्पीड, निष्पीडन—(सं. पुं.) निचोड़ना,
 गारना ।
 निष्पीडित—(सं. वि.) निचोड़ा हुआ ।
 निष्पुत्र—(सं. वि.) अपुत्रक, जिसके पुत्र
 न हो ।
 निष्पुत्र्य—(सं. वि.) पुत्रप्राप्य, जहाँ
 आदादी न हो ।
 निष्पेष—(सं. पुं.) पिना, रगड़, चूँ
 करना ।
 निष्पीरय—(सं. वि.) पीरहीन, निर्बल ।
 निष्प्रकाश—(सं. वि.) जिसमें प्रकाश न हो ।
 निष्प्रचार—(सं. वि.) जो एक गत में
 दूसरे स्थान में न जा सके ।
 निष्प्रताप—(सं. वि.) प्रतापहीन, नेत्ररहित ।
 निष्प्रतिपक्ष—(सं. वि.) जिसमें कोई प्रतिपक्ष
 न हो ।
 निष्प्रतिपक्ष—(सं. वि.) अनुपक्ष, बिना
 पक्ष का ।

निष्प्रतिभ—(सं. वि.) मूर्ख, जड़, जिसमें चमक न हो।

निष्प्रतीकार—(सं. वि.) प्रतिकाररहित, विघ्न-शून्य।

निष्प्रत्यूह—(सं.वि.) निर्विघ्न, वाधा-रहित।

निष्प्रधान—(सं. वि.) प्रधानशून्य, बिना संरदार का।

निष्प्रपंच—(सं. वि.) प्रपंचरहित।

निष्प्रपंचात्मा—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

निष्प्रभ—(सं. वि.) प्रभारहित, बिना चमक का।

निष्प्रभाव—(सं. वि.) बिना प्रभाव या सामर्थ्य का।

निष्प्रयत्न—(सं.वि.) यत्नहीन, उपाय-रहित।

निष्प्रयोजन—(सं. वि.) प्रयोजनरहित, निरर्थक, व्यर्थ, जिससे कोई अर्थ सिद्ध न हो; (अव्य.) व्यर्थ।

निष्प्राण—(सं.वि.) श्वासरहित, मरा हुआ।

निष्प्रीति—(सं. वि.) प्रीतिरहित, जिसमें प्रेम न हो।

निष्प्रही—(हिं. वि.) देखें 'निस्पृह'।

निष्पंद—(सं. पुं.) देखें 'निष्पंद'।

निष्फल—(सं. वि.) फलशून्य, जिसका कोई फल न हो, निरर्थक, वृथा।

निष्फलता—(सं. स्त्री.) असफलता।

निष्फला—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका रजोधर्म होना बंद हो गया हो।

निष्फली—(सं.स्त्री.) निष्फला, वृद्धा स्त्री।

निष्फन—(सं. वि.) फेनरहित, जिसमें फन न हो।

निस्क—(हिं. वि.) देखें 'निःशंक'।

निस्कल्प—(सं. वि.) संकल्परहित।

निस्कंज—(सं. वि.) संज्ञाहीन, अचेत।

निस्कपाल—(सं. पुं.) निशीथ, रात का दो प्रहर।

निस्कस—(हिं. वि.) नृशंस, क्रूर, निर्दय।

निस्कसना—(हिं. क्रि. अ.) निःश्वास लेना, हाँफना।

निस—(हिं.स्त्री.) निशा, रात्रि, रात।

निसक—(हिं. वि.) अशक्त, दुर्बल।

निसकर—(हिं.पुं.) देखें 'निशाकर', चन्द्रमा।

निसचय, निसच—(हिं.पुं.) देखें 'निश्चय'।

निसठ—(हिं. वि.) निर्वन, दरिद्र।

निसत—(हिं. वि.) असत्य।

निसतरना—(हिं. क्रि. अ.) मुक्ति पाना, छुटकारा पाना।

निसतार—(हिं. पुं.) देखें 'निस्तार'।

निसतारना—(हिं.क्रि.सं.) मुक्त करना, निस्तार देना।

निसथीस—(हिं.अव्य.) अहर्निश, रात-दिन।

निसनेहा—(हिं. स्त्री.) देखें 'निःस्नेह'।

निसयाना—(हिं. वि.) जिसका चित्त ठिकाने न हो।

निसर—(सं. वि.) खूब जलनेवाला।

निसरना—(हिं.क्रि.अ.) देखें 'निकलना'।

निसर्ग—(सं.पुं.) प्रकृति, स्वभाव, आकृति, स्वरूप, सृष्टि।

निसर्गज—(सं.वि.) जो प्रकृति से उत्पन्न हो।

निसवासर—(हिं.अव्य.) रात-दिन, सर्वदा।

निसस—(हिं. वि.) श्वासरहित, अचेत, संज्ञाहीन।

निसांस, निसांसा—(हिं.पुं.) ठंडी सांस; (वि.) मृतप्राय।

निसा—(हिं. स्त्री.) सन्तोष, तृप्ति, देखें 'निशा'।

निसाकर—(हिं. पुं.) देखें 'निशाकर'।

निसाचर—(हिं. पुं.) देखें 'निशाचर'।

निसाद—(हिं. पुं.) भंगी, मेहतर।

निसान—(हिं. पुं.) चिह्न, नगाड़ा, घोंसा।

निसानन—(हिं.पुं.) प्रदोष काल, सन्ध्या।

निसा(शा)ना—(हिं. पुं.) लक्ष्य।

निसा(शा)नी—(हिं.स्त्री.) चिह्न, यादगार।

निसापति—(हिं.पुं.) देखें 'निशापति', चन्द्रमा।

निसाफ—(हिं. पुं.) निर्णय, इंसाफ।

निसार—(सं.पुं.) समूह; (अ.पुं.) निछावर, उतारा, मुगल शासन-काल का चाँदी का एक सिक्का।

निसारक—(सं.पुं.) राग का एक भेद।

निसारना—(हिं. क्रि. स.) बाहर करना, निकालना।

निसारा—(सं.स्त्री.) कदली वृक्ष।

निसावरा—(हिं.पुं.) एक प्रकार का कवूतर।

निसास—(हिं.पुं.) देखें 'निःश्वास', गहरी सांस।

निसासी—(हिं. वि.) जिसकी सांस न चलती हो।

निसि—(हिं.स्त्री.) देखें 'निशि', एक प्रकार का वर्ण-वृत्त; -कर, -चर, -चारी—(पुं.) देखें 'निशि' के अंतर्गत।

निसित—(हिं. वि.) तीव्र।

निसिदिन—(हिं. अव्य.) रात-दिन, आठों पहर, सर्वदा, सदा।

निसि—(हिं.स्त्री.) निशीथ, आधी रात।

निसियर—(हिं. पुं.) निशिकर, चन्द्रमा।

निसिवासर—(हिं.अव्य.) रात-दिन, सर्वदा, सदा।

निसीठी—(हिं. वि.) निःसार, जिसमें कुछ तत्त्व न हो, नीरस, फीका।

निसीथ—(हिं. पुं.) आधी रात।

निसुंधार—(सं. पुं.) सैमालू सिंधुवारा।

निसुध—(सं. पुं.) एक असुर का नाम।

निसु—(हिं. स्त्री.) निशा, रात्रि, रात।

निसुका—(हिं. वि.) दरिद्र।

निसूदक—(सं.वि.) हिसक, हिंसा करनेवाला।

निसूदन—(सं. पुं.) हिंसा, वध; (वि.) मारनेवाला।

निसृत—(हिं. वि.) देखें 'निःसृत'।

निसृता—(सं. स्त्री.) निसीथ, सोनापाठा।

निसृष्ट—(सं. वि.) प्ररित, भोजा हुआ, दिया हुआ, त्याज्य, छोड़ा हुआ, मध्यस्थ।

निसृष्टार्थ—(सं.पुं.) वह दूत जो दोनों पक्षों के अभिप्राय को समझकर स्वयं सब प्रश्नों का उत्तर देता और कार्य सिद्ध कर लेता है, अपने स्वामी का काम तत्परता से करनेवाला धीर और वीर मनुष्य।

निसेनी—(हिं. स्त्री.) सोपान, सीढ़ी।

निसेष—(हिं. वि.) देखें 'निःशेष'।

निसेस—(हिं. पुं.) चन्द्रमा।

निसैनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'निसेनी'।

निसोढ़—(सं. वि.) भली भाँति सहन करने योग्य।

निसोग, निसोच—(हिं. वि.) जिसको किसी प्रकार की चिन्ता न हो।

निसोत—(हिं. वि.) जिसमें किसी अन्य वस्तु की मिलावट न हो, विशुद्ध।

निसोथ—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की लता जिसके डंठल और जड़ रेचक होते हैं।

निसोधु—(हिं.स्त्री.) सुध, समाचार, सन्देश।

निस—(सं. उप.) यह उपसर्ग निषेध, निश्चय, साफल्य, अतिक्रम आदि अर्थों में व्यवहृत होता है।

निसकी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का रेशम का कीड़ा।

निसकेवल—(हिं.वि.) निर्मल, शुद्ध, निष्केवल।

निस्वंतु—(सं. वि.) तंतुहीन, सन्तानहीन।

निस्वंद्र—(सं. वि.) तन्द्वाररहित, आलस्य-रहित, पुष्ट, बलवान्।

निस्वंभ—(सं. वि.) स्तंभरहित, जिसमें खंभा न हो।

निस्वच—(सं. वि.) तत्त्वहीन, निःसार, जिसमें कोई सार न हो।

निस्वनी—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसको स्तन न हो, बटिका, गोली।

निस्वथ—(सं. वि.) निश्चेष्ट, जिसमें गति या व्यापार न हो, नीरव, सन्नटा; -ता—(स्त्री.) सन्नटा।

निस्वमस्क—(सं.वि.) अन्वकारशून्य, उजेली।

निस्वरण—(सं. पुं.) निस्तार, छुटकारा, निर्गम, दवाकर निकालना, पार जानें की क्रिया।

निस्वरना—(हिं.क्रि.अ.) सूक्त होना, छूटना।

निस्तरी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का रेथम का कोड़ा ।
 निस्तरी-(सं. वि.) बिना नौके का ।
 निस्तरीय-(सं.वि.) जिस नाव पर माँझी न हो ।
 निस्तर्व्य-(सं. वि.) जिसकी कल्पना या तर्क न किया जा सके ।
 निस्तल-(सं. वि.) बिना पेंदी या तल का, चलायमान ।
 निस्तार-(सं. पुं.) निस्तरण, उद्धार, पार होने का भाव, अभीष्ट-प्राप्ति ।
 निस्तारक-(सं. पुं.) मोक्ष देनेवाला, बचानेवाला, तारनेवाला ।
 निस्तारण-(सं. पुं.) छुटकारा, मुक्ति, पार करना, बचाना, छोड़ना ।
 निस्तारण-(हि. पुं.) देखें 'निस्तारण' ।
 निस्तारना-(हि. क्रि. स.) मुक्त करना, छुटकारा देना ।
 निस्तारवीज-(सं. पुं.) वह उपाय जिससे मनुष्य जन्म-मरण से मुक्त हो जाय ।
 निस्तारा-(हि. पुं.) देखें 'निस्तार' ।
 निस्तमिर-(सं. वि.) अन्वकाररहित ।
 निस्तूर्ण-(सं. वि.) जिसका निस्तार हो चुका हो, पार गया हुआ, जो तप कर चुका हो ।
 निस्तुति-(सं. वि.) प्रशंसारहित ।
 निस्तुप-(सं. वि.) जिसमें भूसी न हो, निर्मल; (पुं.) गेहूँ ।
 निस्तुपित-(सं. वि.) छाँटा हुआ (अन्न) ।
 निस्तुपोपल-(सं.पुं.) स्फटिकमणि, विल्लीरा ।
 निस्तोज-(सं. वि.) जिसमें तेज न हो, बिना चमक का, प्रभारहित, मलिन ।
 निस्तल-(सं. वि.) बिना तेल का, जिसमें तेल न हो ।
 निस्तोदन-(सं. पुं.) अति कष्ट ।
 निस्तोप-(सं.वि.) जलरहित, बिना जल का ।
 निस्त्रंश-(सं. वि.) सयहीन, निडर ।
 निस्त्रप-(सं. वि.) निर्लज्ज ।
 निस्त्रिश-(सं. वि.) निर्दय, कठोर; (पुं.) खड्ग, तलवार ।
 निस्त्रैगुण्य-(सं.वि.) जो सत्त्व, रज, तम-इन तीनों गुणों से रहित हो ।
 निस्त्रेह-(सं. वि.) प्रेमशून्य, जिसमें प्रेम न हो, जिसमें तेल न हो; -फला-(स्त्री.) सफेद मटकट्या ।
 निस्त्रंभ-(सं. वि.) जिसमें कंप न हो ।
 निस्त्रंदी-(सं.वि.) निष्पन्दयुक्त, कांपता हुआ ।
 निस्पृह-(सं. वि.) जिसको किसी प्रकार का लोभ या लालच न हो; -ता-(स्त्री.) निस्पृह होने का भाव, लोभ या लालचा

न होना ।
 निस्पृहा-(सं.स्त्री.) कलिहारी नामक पौधा ।
 निख (खा)व-(सं.वि.) मात का माँड़, क्षरण ।
 निखावी-(सं. वि.) जो बहता हो ।
 निस्व-(सं. वि.) दरिद्र, हीन, गरीब ।
 निस्वन-(सं. पुं.) शब्द ।
 निस्वास-(हि. पुं.) देखें 'निःश्वास' ।
 निस्संकोच-(हि. वि.) संकोचरहित, जिसमें संकोच या लज्जा न हो; (अव्य.) बेचड़क ।
 निस्संतान-(हि. वि.) संततिरहित ।
 निस्संदेह-(हि. अव्य.) अवश्य; (वि.) जिसमें सन्देह न हो ।
 निस्सरण-(सं. पुं.) निकलने का मार्ग या स्थान, निकास ।
 निस्सहाय-(हि. वि.) निराश्रय ।
 निस्सार-(सं. वि.) निस्तत्त्व, जिसमें कोई रोचक तत्त्व न हो, साररहित ।
 निस्सारित-(सं. वि.) निकाला हुआ, वाहर किया हुआ ।
 निस्सीम-(सं. वि.) जिसकी कोई सीमा न हो, असीम, अपार ।
 निस्सूत-(हि. पुं.) तलवार के बत्तीस हाथों में से एक ।
 निस्स्वादु-(हि. वि.) जिसमें कोई स्वाद न हो, जिसका स्वाद बुरा हो ।
 निस्स्वार्थ-(हि. वि.) स्वार्थ से रहित, जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो ।
 निहंग-(हि. वि.) एकाकी, अकेला, जो विवाह न करता हो अथवा स्त्री से संबंध न रखता हो, तंगा, निर्लज्ज ।
 निहंगम-(हि. वि.) देखें 'निहंग' ।
 निहंग-लाड़ला-(हि. वि.) वह जो माता-पिता के अधिक लाड़-प्यार के कारण बहुत उद्वृष्ट बन गया हो ।
 निहंतव्य-(सं. वि.) मारने योग्य ।
 निहंता-(सं. वि.) नाश करनेवाला, प्राणघातक ।
 निहकाम-(हि. वि.) देखें 'निष्काम' ।
 निहचय-(हि. पुं.) देखें 'निश्चय' ।
 निहचल-(हि. वि.) देखें 'निश्चल' ।
 निहत-(सं. वि.) नष्ट, फेंका हुआ, मार डाला हुआ ।
 निहत्या-(हि. वि.) शस्त्रहीन, जिसके हाथ में कोई शस्त्र न हो ।
 निहनन-(सं. पुं.) मारण, वध ।
 निहपाप-(हि. वि.) देखें 'निष्पाप' ।
 निहफल-(हि. वि.) देखें 'निष्फल' ।
 निहल-(हि.पुं.) वह नृमि जो नदी की धारा के हट जाने पर निकल आई हो, कछार ।
 निहाई-(हि. स्त्री.) पथके लोहे का नृमि

में गड़ा हुआ वह चौकोर टुकड़ा जिस पर लोहार या सोनार हथौड़े से धातु पीटने हैं ।
 निहाउ-(हि.पुं.) देखें 'निहाई' ।
 निहाका-(हि. स्त्री.) गोह, घड़ियाल ।
 निहानी-(हि. स्त्री.) वारीक खोदाई करने की अर्धचंद्राकार नुकीली रुखानी ।
 निहायत-(अ.अव्य.) बहुत अधिक या ज्यादा ।
 निहार-(सं. पुं.) नीहार, हिम, ओस, कुहरा, पाला ।
 निहारना-(हि.क्रि.सं.) ध्यानपूर्वक देखना, ताकना ।
 निहारिका-(सं. स्त्री.) आकाश में दिखाई देनेवाला छाया-पथ-ना पिंड की तरह जान पड़ता है ।
 निहाल-(फा. वि.) जो सब प्रकार से संतुष्ट और तृप्त हो, पूर्णकाम ।
 निहाल-लोचन-(हि.पुं.) वह धोड़ा जिसके अयाल दोनों ओर लटके होते हैं ।
 निहाव-(हि. पुं.) लोहे का बड़ा हथौड़ा या घन ।
 निहिसन-(सं. पुं.) मारण, वध ।
 निहित-(सं. वि.) स्थापित, रखा हुआ ।
 निहीन-(सं. वि.) पामर, नीच ।
 निहूकना-(हि. क्रि. अ.) झुकना ।
 निहूड़ना, निहूरना-(हि.क्रि.अ.) झुकना, नचाना ।
 निहूराना-(हि. क्रि.) झुकाना, नवाना ।
 निहूरई-(हि. स्त्री.) निष्पूरता ।
 निहोरना-(हि. क्रि. सं.) विनती करना, प्रार्थना करना, कृतज्ञ होना, नमोती करना, मनाना ।
 निहोरा-(हि.पुं.) उपकार, अनुग्रह, आश्रय, आचार, भरोसा, विनती, प्रार्थना ।
 निहोरे-(हि. अव्य.) वास्ते लिये, कारण से, बदीलत, निमित्त, द्वारा ।
 निह नुत-(सं. वि.) छियाया हुआ ।
 नौद-(हि. स्त्री.) निद्रा, स्वप्न; (मुद्गा.) -उच्छटना-नौद गुल जाना; -डूटना-जाग पड़ना; -पड़ना-नौद जाना; -भर सोना-बहुत देर तक सोना; -हराम होना-नौद न जाना ।
 नौदड़ी-(हि. स्त्री.) देखें 'नौद' ।
 नौक, नौका-(हि. वि.) स्वच्छ, सुन्दर, अच्छा, मला; (पुं.) उत्तमता, अच्छा-पन, सुन्दरता ।
 नौकार-(सं. पुं.) नल्लेगा, तिरकार ।
 नौकाश-(सं. वि.) कुत्त, जमान; (पुं.) निश्चय ।
 नौके-(हि. अव्य.) नती-नती, अन्तरी तरह से ।
 नौच-(सं. वि.) कति, गुण उत्तमता तर्प

से निकुण्ट, तुच्छ, अवम, पामर; (पु.) क्षुद्र मनुष्य, ओछा आदमी।

नीच-अञ्च-(हिं. वि., पुं.) मला-बुरा, हानि-लाम, मलाई-बुराई।

नीचक-(सं. वि.) वामन, बौना, नाटा।

नीच कमाई-(हिं. स्त्री.) खोटा काम, बुरे काम से कमाया हुआ धन।

नीचका-(सं. स्त्री.) उत्तम गौ, अच्छी गाय।

नीचग-(सं. पुं.) नीचे की ओर बहनेवाला पानी; (वि.) पामर, ओछा।

नीचगा-(सं. स्त्री.) निम्नगा, नदी, नीच के साथ गमन करनेवाली स्त्री।

नीचगामी-(हिं. वि.) नीचे जानेवाला, ओछा; (पुं.) पानी।

नीचट-(हिं. वि.) दूढ़, पक्का।

नीचता-(सं. स्त्री.) नीचत्व, अधमता, खोटाई।

नीचत्व-(सं. पुं.) नीचता।

नीचा-(हिं. वि.) जिसके तल से आस-पास का तल ऊँचा हो, जो उतार या ढाल पर हो, जो ऊपर की ओर दूर तक न गया हो, छोटा, ओछा, मध्यम, घीमा, जो तीव्र न हो, झुका हुआ, (भूमि) जो ऊँचाई से समतल होकर दूर तक फैली हो, अधिक लटकता हुआ; -ऊँचा-(वि.) जो समतल न हो, मला-बुरा; (मुहा.) -खाना-लज्जित होना, हार जाना; -दिखाना-अपमानित करना, हराना; -देखना-अपमानित होना, हारना; नीची दृष्टि करना-सामने न देखना, सिर झुकाना।

नीचायक-(सं. वि.) बहुत चाहनेवाला।

नीचानाय-(सं. वि.) तुच्छ विचार का, ओछा।

नीचू-(हिं. वि.) देखे 'नीचा', जो टपकता न हो।

नीचे-(हिं. अव्य.) नीचे की ओर, अधीनता में, तले, घटकर, कम; -ऊपर-एक दूसरे के ऊपर; (मुहा.) ऊपर से नीचे तक-सर्वत्र, हर जगह; -गिरना-प्रतिष्ठा नष्ट होना, पतित होना।

नीचोच्चवृत्त-(सं. पुं.) वह वृत्त जिसका केन्द्र किसी बड़े वृत्त के मध्य में हो।

नीचोपगत-(सं. वि.) वह जो खगोल के नीचे के भाग में हो।

नीज-(हिं. पुं.) रज्जु, रस्ती।

नीजन-(हिं. पुं.) निर्जन स्थान।

नीजू-(हिं. स्त्री.) पानी भरने की रस्ती।

नीझर-(हिं. पुं.) देखें 'निर्झर', पानी का सोता।

नीठ-(हिं. अव्य.) कठिनाई से।

नीठि-(हिं. स्त्री.) अरुचि, अनिच्छा;

(अव्य.) किसी तरह या प्रकार से, कठिनाता से।

नीठो-(हिं. वि.) अप्रिय, जो सुहावना न हो।

नीड़-(सं. पुं.) पक्षियों के रहने का घोंसला।

नीड़क-(सं. पुं.) खग, पक्षी, चिड़िया।

नीड़ज-(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया।

नीड़जद्र-(सं. पुं.) गरुड़ पक्षी।

नीड़ोद्भव-(सं. पुं.) खग, पक्षी, चिड़िया।

नीत-(सं. वि.) स्थापित, गृहीत, लाया हुआ, प्राप्त, पाया हुआ; (पुं.) धान्य, धान।

नीति-(सं. स्त्री.) ले जाने की क्रिया या ढंग, आचार-पद्धति, समाज का कल्याण करनेवाली व्यवहार की रीति, वह आचार तथा व्यवहार का नियम जो समाज के हित के लिये स्थिर किया गया हो, युक्ति, उपाय, किसी कार्य की सिद्धि के लिये अपनाई जानेवाली चाल, वह युक्ति जो राज्य की रक्षा के लिये काम में लाई जाती है, राजा और प्रजा दोनों के लिये निर्धारित की हुई व्यवस्था, राजनीति;

-कुशल-(वि.) नीतिज्ञ; -घोष-(पुं.) वृहस्पति के रथ का नाम; -ज्ञ-(वि.) नीति जाननेवाला, नीति में प्रवीण, नीति में कुशल; -मान्-(वि.) नीति-कुशल, सदाचारी; -विद्या-(स्त्री.) नीति-विषयक विद्या; -शास्त्र-(पुं.) वह शास्त्र जिसमें मनुष्य-समाज के हित के लिये देश, काल तथा पात्र के अनुसार आचार, व्यवहार, प्रबन्ध और शासन के नियम लिखे हों।

नीथ-(सं. पुं.) नयन, स्तोत्र।

नीदना-(हिं. क्रि. अ.) शयन करना, सोना।

नीध-(सं. पुं.) छाजन की ओरी, पहिये की नाभि, चन्द्रमा, रेवती नक्षत्र।

नीधना-(हिं. वि.) निर्धन, दरिद्र।

नीनाह-(सं. पुं.) निबन्ध, बन्धन।

नीप-(सं. पुं.) पहाड़ का निचला भाग, अशोक वृक्ष, गाँठ देने के लिये रस्ती का फन्दा।

नीपराज-(सं. पुं.) राजकदम्ब का वृक्ष।

नीबू-(हिं. पुं.) गरम देशों में होनेवाला एक छोटे आकार का काँटेदार वृक्ष जिसका गोल फल खट्टा रसदार रहता है।

नीम-(हिं. पुं.) गरम देशों में होनेवाला एक वृक्ष जिसका प्रत्येक भाग कड़ुआ होता है, (चर्म रोग की यह विशिष्ट औषध है); -हकीम-(पुं.) मामूली देवाओं का जानकार चिकित्सक; -हकीम खतरे जान-नीम-हकीम की दवा करने

में जान जाने का खतरा रहता है।

नीमच-(हिं. पुं.) नदी में मिलनेवाली एक प्रकार की मछली।

नीमटर-(हिं. वि.) जिसको किसी विद्या की थोड़ी सी जानकारी हो।

नीमन-(हिं. वि.) अच्छा, मला, नीरोग, चंगा, जो विगड़ा न हो, सुन्दर, बढ़िया।

नीमर-(हिं. वि.) दुबल, बलहीन।

नीमस्तीन-(हिं. स्त्री.) आवी दाँह की कुस्ती।

नीमावत-(हिं. पुं.) एक वैष्णव सम्प्रदाय।

नीयत-(अ. स्त्री.) आंतरिक उद्देश्य या अभिप्राय, आशय, संकल्प, इच्छा।

नीरंग-(सं. वि.) विना रंग का।

निरंध्र-(सं. वि.) छिद्ररहित, जिसमें छेद न हो।

नीर-(सं. पुं.) जल, पानी, रस, कोई द्रव पदार्थ, फफोले के भीतर का पानी, निर्यास, सुगंधवाला (औषधि); -डलना-आंसू बहना।

नीरक्त-(सं. वि.) रक्तशून्य, वर्णरहित।

नीरज-(सं. पुं.) पद्म, कमल, मोती, उशीर, महादेव; (वि.) जल में उत्पन्न।

नीरजस-(सं. वि.) निर्धूल, जहाँ पूल न हो, विना पराग का।

नीरजात-(सं. वि.) जल में उत्पन्न; (पुं.) कमल।

नीरत-(सं. वि.) विरत।

नीरद-(सं. पुं.) मेघ, बादल; (वि.) अदंत, विना दाँत का।

नीरधर-(सं. पुं.) मेघ, बादल।

नीरधि, नीरनिधि-(सं. पुं.) समुद्र।

नीरपति-(सं. पुं.) वरुण देवता।

नीरप्रिय-(सं. वि.) जिसको जल बहुत प्यारा हो।

नीररुह-(सं. पुं.) पद्म, कमल।

नीरव-(सं. वि.) स्तब्ध, विना शब्द का।

नीरस-(सं. पुं.) दाड़िम, अनार; (वि.) जिसमें रस न हो, सूखा, स्वादरहित, फीका।

नीरसन-(सं. वि.) विना करवनी या कटिवन्ध का।

नीरसा-(सं. स्त्री.) एक प्रकार की घास।

नीरांजन-(सं. पुं.) दीपदान, आरती, अस्त्र को शुद्ध करने या चमकाने का काम।

नीराज-(सं. पुं.) ऊदविलाव, नेवला।

नीराजन-(सं. पुं.) दीपदान, आरती।

नीराजना-(सं. स्त्री.) देवता की दीपक दिखलाने की विधि; (क्रि. स.) आरती करना।

नीरुच-(सं. वि.) जिसमें बहुत चमक न हो।

नीरुज-(सं. वि.) रोगरहित, नीरोग, स्वस्थ।

नीरुज्ज-(सं. पुं.) आरोग्य, स्वास्थ्य;

(वि.) चतुर।

निरूप-(सं. वि.) रूपहीन, कुरूप ।
 नीरे-(हि. अव्य.) नियरे, पास में ।
 नीरोग-(हि. वि.) रोगहीन, स्वस्थ ।
 नीरोह-(सं. वि.) अंकुरित ।
 नील-(सं. पुं.) नीला रंग, एक पर्वत का नाम, एक पौधा जिससे रंग बनता है, नी निवियों में से एक, कलंक, बटवृक्ष, सौ खरब की संख्या, राम की सेना का एक वंदर, इन्द्रनील मणि, नीलम, एक नाग का नाम, काँच, लवण, नीला वस्त्र, शरीर पर पड़नेवाला चोट का नीला दाग एक प्रकार का नाच, तालीसपत्र, विष; (वि.) नीले रंग का, नीला; (मुहा.)
 -का टीका लगाना-अपमानित करना;
 -कंठक-(पुं.) चातक पक्षी, पपीहा; -कंठ-(वि.) जिसका कंठ नीला हो, शिव, महादेव, गौरा पक्षी, चटक, मयूर, मोर, एक प्रकार की चिड़िया जिसके कंठ और डैने नीले रंग के होते हैं; -कंठक-(पुं.) चातक पक्षी, पपीहा; -कंठाक्ष-(पुं.) रुद्राक्ष; (वि.) जिसकी आँखें खञ्जन के समान हों; -फ-(पुं.) काला मृग, भौरा, मिलावाँ, मटर, काँच, लवण, बीजगणित में अव्यक्त राशि का भेद; -फण-(पुं.) नीलम का टुकड़ा, ठुंडी पर गोदे हुए गोदने का विन्दु; -फणा-(स्त्री.) स्याहजीरा;
 -फर-(पुं.) नील बनानेवाला; -फाँस-(पुं.) एक प्रकार की पहाड़ी चिड़ियाँ, विष्णु, नीलम रत्न; -फाधिक-(पुं.) जिसका देह नीला हो; -कुंतला-(स्त्री.) पार्वती की एक सखी का नाम;
 -कुसुमा-(स्त्री.) नीली कटसरैया;
 -केशी-(स्त्री.) नील का पौधा;
 -कान्ता-(स्त्री.) विष्णुकान्ता नामक लता जिसमें नीले फल होते हैं; -कौब-(पुं.) काला वगला; -गंगा-(स्त्री.) एक नदी का नाम; -गर्भ-(वि.) जिस फूल आदि का विचला भाग नीला हो; -गाय-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का जंगली पशु जो गाय के सदृश होता है; (यह जंगलों में दल बाँधकर रहता है); -चक्र-(सं. पुं.) दण्डक वृत्त का एक भेद; -नीरज-(पुं.) नीला कमल;
 -ता-(स्त्री.) नीलापन;
 -पंर-(पुं.) काला कौचड़, अन्वकार; -पत्र-(पुं.) नील कमल, मोरा (मात) जिसकी जड़ में केशर होता है, नीला पत्ता; -पत्री-(स्त्री.) जंगली नीरज; -पद्म-(पुं.) नीला कमल;

-पिंगला-(स्त्री.) नीलापन और मुरापन लिये लाल रंग की गाय; -पिच्छ-(पुं.) श्यन (वाज) पक्षी; -पुराण-(पुं.) एक पुराण का नाम जिसमें कश्मीर-सम्बन्धी कथाएँ हैं; -पुष्प-(पुं.) नीला फूल, नीली मँगरैया;
 -पुष्पिका-(स्त्री.) अलसी, तीसी, नील का पौधा; -पुष्पी-(स्त्री.) देखें 'नीलपुष्पिका'; -पृष्ठ-(पुं.) अग्नि, आग; -पोर-(पुं.) एक प्रकार की ऊँख; -फला-(स्त्री.) वैंगन, मंटा; -वरी-(हि. स्त्री.) कच्चे नील की बट्टी; -भ-(पुं.) चन्द्रमा, मेघ, बादल, मक्खी; -मंडल-(पुं.) पल्प, फालसा; मक्खी; -मणि-(सं. पुं.) इन्द्रनील, नीलम; -मक्षिका-(स्त्री.) नीली -मल्लिका-(स्त्री.) कपित्थ, कैय, वेल; -माधव-(पुं.) विष्णु, जगन्नाथ, जगन्नाथ दारु ब्रह्म के पूर्व की प्रतिमा जो इन्द्रद्युम्न के आते ही अन्तहित हो गई थी; -माघ-(पुं.) काला उड़द; -नीलिक-(पुं.) खद्योत, जुगनु; -मृत्तिका-(स्त्री.) हीराकसीस;
 -मेह-(पुं.) एक प्रकार का प्रमेह रोग;
 -मोर-(हि. पुं.) कुररी नामक पक्षी जो हिमालय पर्वत पर पाया जाता है;
 -प्रण्टिका-(स्त्री.) एक प्रकार की काली ऊँख; -रत्न-(पुं.) इन्द्रनील मणि, नीलम; -रूपक-(पुं.) पाकड़ का वृक्ष;
 -लोचन-(वि.) नीली आँखोंवाला;
 -लोहित-(पुं.) शिव, महादेव, (वि.) नीलापन लिये लाल, वैंगनी; -लोहिता-(स्त्री.) शिवा, पार्वती, एक प्रकार का छोटा जामुन; -वर्ण-(पुं.) पल्प फल, फालसा; -वर्धाम्-(पुं.) काला मेडक;
 -वसन-(वि.) नीला वस्त्र पहिने हुये; (पुं.) गनि ग्रह; -वस्त्र-(पुं.) परशुराम;
 -वृत्त-(पुं.) तुल, रई, तरकश बनाने की लकड़ी; -वृषा-(स्त्री.) वगन, मंटा;
 -तस्वती-(स्त्री.) तारा देवी; -सस्य-(पुं.) वाजरा; -सार-(पुं.) तेंदू का वृक्ष; -सिर-(हि. पुं.) नीले सिर की वस्तु; -स्वदय-(पुं.) एक वर्णवृत्त का नाम ।
 नीलम-(सं. पुं.) नीले रंग का बहुमूल्य रत्न ।
 नीलांग-(सं. पुं.) सारस पक्षी; (वि.) नीले रंग का ।
 नीलांगु-(सं. पुं.) मोड़ा, भौरा, चड़ियाल, नीलांजन-(सं. पुं.) मुरमा, तुल्य, तृतिया ।
 नीलांजना-(सं. स्त्री.) पिपुत्त, विजली ।

नीलांबर-(सं. पुं.) बलदेव, दानि ग्रह, राक्षस, नीला वस्त्र; (वि.) नीला वस्त्र पहिनेवाला ।
 नीलांबरी-(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 नीलांबुज-(सं. पुं.) नील पद्म, नील कमल ।
 नीला-(सं. स्त्री.) नील का पौधा, नीली मक्खी, एक राग का नाम; (हि. वि.) आसमानी रंग का; (पुं.) नीलम, एक प्रकार का क्यूतर; (मुहा.) -नीला होता-रोप दिखलाना ।
 नीलाक्ष-(सं. वि.) नीली आँख का; (पुं.) राजहंस ।
 नीलाचल-(सं. पुं.) जगन्नाथ पुरी के पास की एक छोटी पहाड़ी का नाम ।
 नीलायोया-(हि. पुं.) ताँव का धार, तृतिया ।
 नीलाब्ज-(सं. पुं.) नील पद्म, नीला कमल ।
 नीलाभ्र-(सं. पुं.) काला अन्नक ।
 नीलाम-(हि. पुं.) बिक्री आदि का एक टंग । जिसमें माल सबसे ऊँचा बोल बोलनेवाले खरीदार के हाथ बेच दिया जाता है ।
 नीलावती-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का चावल ।
 नीलाश्मज-(सं. पुं.) तुल्य, तृतिया ।
 नीलाश्मन्-(सं. पुं.) नीलकान्त मणि ।
 नीलासन-(सं. पुं.) एक रतिवन्ध का नाम ।
 नीलाहट-(हि. स्त्री.) नीलापन ।
 नीलिका-(सं. स्त्री.) नील का पौधा, नीली निर्गुण्डी, आँख का एक रोग ।
 नीलिनी-(सं. स्त्री.) नील का पौधा ।
 नीलिमा-(सं. स्त्री.) नीलापन, स्वामता ।
 नीली-(हि. वि. स्त्री.) नीले रंग की ।
 नीली घोड़ी-(हि. स्त्री.) जामे में सिन्धी हुई कागज की घोड़ी जिसको पहिने केने से जान पड़ता है कि बादमी घोड़े पर सवार है; (दफाली लोग इसको पहनकर गाजी मियाँ का गीत गाकर मीग मारने हैं) ।
 नीलोत्पल-(सं. पुं.) नीलपत्र, नीला कमल ।
 नीलोद-(सं. पुं.) वह समुद्र या नदी जिसका पानी नीला हो ।
 नीर्वे-(हि. स्त्री.) घर बनाने के लिये गहरी नाली के आकार का गूदा जिसके पेंदे, से नीत की जोड़ाई आरम्भ होती है, मोत का आधार, मूल-निमित्त; मूत्र, मूल; (मुहा.) -जमाना-आधार रद्द करना; -बेना-मूत्रा गोदाल, यौनर बनाने के लिये जोड़ाई करना, नीर्वे का आरंभ करना ।
 नीव-(हि. स्त्री.) शेरों 'नीर्वे' ।
 नीवानास-(हि. पुं.) मत्स्यनाथ, कश्यप, चर्चनाथ ।
 नीवार-(सं. पुं.) सिन्धी का नाव ।

नीवि—(सं. स्त्री.) देखें 'नीवी' ।
 नीवी—(सं. स्त्री.) पण, मूलवन, पूंजी,
 स्त्री के कमर परके वस्त्र बाँधने की डोरी,
 नारा, कमर में लपेटे हुई घोती की गाँठ,
 साड़ी, घोती, लँहगे में पड़ी हुई डोरी ।
 नीद्व—(सं. पुं.) पहिये का घेरा, चन्द्र,
 रेवती नक्षत्र ।
 नीशार—(सं. पुं.) सरदी से बचने का ओढ़ना ।
 नीस—(हि. पुं.) सफेद धतूरा ।
 नीसक—(हि. वि.) बलहीन ।
 नीसानो—(हि. स्त्री.) तेईस मात्राओं का
 एक छन्द ।
 नीसुआ, नीसू—(हि. पुं.) भूमि में गड़ा
 हुआ लकड़ी का कुन्दा जिस पर रखकर
 गड़ासे से चारा काटा जाता है ।
 नीहार—(सं. पुं.) तुषार, हिम, पाला, कुहरा ।
 नीहारस्फोट—(सं. पुं.) हिम का बड़ा टुकड़ा ।
 नीहारिका—(सं. स्त्री.) आकाश में फैला
 हुआ आकाश-गंगा-सा प्रकाश-युज जो
 अँधियारी रात में अस्पष्ट रूप से
 दिखाई पड़ता है ।
 नू—(सं. पुं.) अनुस्वान ।
 नूकता—(अ. पुं.) ऐव, दोष, छिद्र, घन्वा,
 दाग, विदु, अक्षरों पर लगाई जानेवाली
 विंदी; -चीनी—(स्त्री.) छिद्रान्वेषण ।
 नूकरी—(हि. स्त्री.) जल के पास रहने-
 वाली एक चिड़िया जिसकी चोंच काली
 और पैर सफेद होते हैं ।
 नूकसान—(अ. पुं.) क्षति, हानि, कमी, न्यूनता ।
 नूकई—(अ. स्त्री.) खुरपी से निराने का काम ।
 नूकाना—(हि. क्रि. स.) छिपाना ।
 नूकीला—(हि. वि.) नोकदार, नोकझोंक
 का, बाँका ।
 नूकड़—(हि. पुं.) नोक, पतला सिरा,
 अस्त, छोर, निकला हुआ सिरा, नाका ।
 नूका—(हि. पु.) नोक, नूकीला भाग ।
 नूकस—(अ. पुं.) ऐव, दोष, त्रुटि ।
 नूकरना—(हि. क्रि. अ.) भालू का चित लेटना
 नूचना—(हि. क्रि. अ.) किसी वस्तु का खिंच-
 कर अलग होना, उखड़ना, नख आदि से
 नोचा जाना, खरोंचा जाना ।
 नूचवाना—(हि. क्रि. स.) नोचने के लिये
 किसी दूसरे को लगाना, नोचने देना ।
 नूजड—(हि. पुं.) संगीत की चौबीस शोभाओं
 में से एक ।
 नूत—(सं. वि.) प्रशंसा या स्तुति किया हुआ ।
 नूति—(सं. स्त्री.) स्तुति, वन्दना, पूजा ।
 नूत्त—(सं. वि.) भेजा हुआ, चलाया हुआ ।
 नूनतरा, नूनखारा—(हि. वि.) स्वाद में
 नमक के सदृश, नमकीन ।

नूनना—(हि. क्रि. स.) लुनना, कृषिफल
 काटना ।
 नूनाई—(हि. स्त्री.) सुन्दरता, लावण्य ।
 नूनी, नूनी—(हि. स्त्री.) छोटी किस्म का
 शहतूत, पुरुष की जननेन्द्रिय ।
 नूनैरा—(हि. पुं.) नोनिया, नमक बनानेवाला
 नून्न—(सं. वि.) प्रेरित, भेजा हुआ ।
 नूमा—(फा. वि.) समस्त पदों में व्यवहृत
 होनेवाला 'सदृश या मार्निद' का अर्थ-
 सूचक शब्द ।
 नूमाइंदा—(फा. पुं.) दिखानेवाला, प्रकट
 करनवाला, प्रतिनिधि ।
 नूमाइश—(फा. स्त्री.) दिखावा, प्रदर्शन,
 प्रदर्शनी ।
 नूमाइशी—(फा. वि.) दिखावटी, प्रद-
 शनात्मक ।
 नूमाई—(फा. स्त्री.) प्रदर्शन ।
 नूमार्या—(फा. वि.) जाहिर, प्रकट ।
 नूसखा—(अ. पुं.) लिखा हुआ कागज, किसी
 रोग के निवारणार्थ प्रस्तुत औषध,
 औषध के पदार्थों की विवरण-सूची ।
 नूत—(सं. वि.) स्तुत, प्रशंसा किया हुआ;
 (हि. वि.) नूतन, नया, अनोखा, अनूठा ।
 नूतन—(सं. वि.) नवीन, नया, अपूर्व,
 अनोखा, विचित्र, विलक्षण ।
 नूतनता—(हि. स्त्री.) नवीनता, नयापन ।
 नूतनत्व—(सं. पुं.) नवीनता, नूतनता ।
 नूद—(सं. पुं.) शहतूत ।
 नून—(हि. पुं.) आल की जाति की एक
 लता, लवण, नमक; (हि. वि.) देखें
 'न्यून', कम; -तेल—(पुं.) गृहस्थी की
 भोजन-सामग्रियाँ आदि ।
 नूनताई—(हि. स्त्री.) न्यूनता, कमी ।
 नूपुर—(सं. पुं.) स्त्रियों की पैर में पहिनने
 का एक गहना, पैजनी, नगण के पहिले
 भेद का नाम, इक्ष्वाकु वंश के एक
 राजा का नाम ।
 नूर—(अ. पुं.) ज्योति, प्रकाश, कांति, छवि ।
 नूरा—(हि. पुं.) आपस में मिलकर लड़ा
 जानवाला मल्लयुद्ध; (वि.) प्रतापी,
 तेजस्वी ।
 नूरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की सुन्दर
 छोटी चिड़िया ।
 नू—(सं. पुं.) मनुष्य, पुरुष ।
 नूकुकुर—(सं. पुं.) कुत्ते के समान व्यवहार
 करने वाला मनुष्य ।
 नूकेशरी—(सं. पुं.) नूसिहावलार, विष्णु,
 अति पराक्रमी पुरुष ।
 नूघन—(सं. वि.) तरघातक ।
 नूजघ—(सं. वि.) नरभक्षक, मनुष्य को

खानेवाला ।

नूजाति—(सं. स्त्री.) मनुष्य जाति ।
 नूतक—(हि. वि.) नर्तक, नाचनेवाला ।
 नूति—(सं. स्त्री.) नर्तन, नाच ।
 नूत्तना—(हि. क्रि. अ.) नाचना ।
 नूत्य—(सं. पुं.) संगीत के ताल और गति
 के अनुसार हाथ-पाँव हिलाने, उछलन,
 कूदने आदि का व्यापार, ताण्डव, नाच;
 -प्रिय—(पुं.) ताण्डवप्रिय, महादेव,
 कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम;
 -शाला—(स्त्री.) नाट्यगृह, नाच-घर;
 -स्थान—(पुं.) नाचने का स्थान ।
 नूदुर्ग—(सं. पुं.) सेना के चारों ओर का घेरा ।
 नूदेव, नूदेवता—(सं. पुं.) राजा, ब्राह्मण ।
 नूप—(सं. पुं.) नरपति, राजा; -गृह—(पुं.)
 राजमहल; -तरु—(पुं.) खिरनी का पेड़;
 -ता—(हि. स्त्री.) राजा का गुण या
 भाव; -त्व—(पुं.) राजत्व, राजा का
 काम; -द्रुम—(पुं.) खिरनी का वृक्ष;
 -द्रोही—(पुं.) परशुराम; -प्रिय—(पुं.)
 जड़हन, धान, आम का वृक्ष, पहाड़ी
 तोता; (वि.) राजा का प्रिय; -मंदिर—
 (पुं.) राजगृह, राजमवन; -भान—
 (पुं.) एक प्रकार का वाजा जो राजाओं
 के भोजन के समय बजाया जाता था;
 -शु—(पुं.) नरपशु, मूर्ख; -सभा—(स्त्री.)
 राजाओं की सभा; -सुता—(स्त्री.)
 राजकुमारी, छछंदर ।
 नूवानुचर—(सं. पुं.) राजमृत्य, राजा का
 नौकर ।
 नूवाभोर—(सं. पुं.) देखें 'नूपमान' ।
 नूवासय—(सं. पुं.) राजयक्ष्मा, क्षयरोग ।
 नूवाल—(सं. पुं.) नूपति, राजा ।
 नूवाल्य—(सं. पुं.) राजप्रासाद, राजमहल ।
 नूवासन—(सं. पुं.) राजा का सिंहासन ।
 नूपौवित—(सं. वि.) राजा के पोष्य ।
 नूशण—(सं. पुं.) धन, सम्पत्ति ।
 नूमणि—(सं. पुं.) एक प्रकार का मूत जो
 वच्चों को लगता और कष्ट देता है; श्रेष्ठ
 मनुष्य ।
 नूमर—(सं. पुं.) मनुष्य को मारनेवाला
 राक्षस ।
 नूमेध—(सं. पुं.) नरमेध यज्ञ ।
 नूयज्ञ—(सं. पुं.) पंच यज्ञों में से एक जो
 गृहस्थ के लिये कर्तव्य है, अतिथि-सेवा ।
 नूलोक—(सं. पुं.) मर्त्य-लोक, भू-लोक ।
 नूवाहन—(सं. पुं.) नरवाहन, कुवेर ।
 नूवेष्टन—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 नूशंस—(सं. वि.) क्रूर, निर्दय, अपकारी,
 अनिष्टकारी, अत्याचारी; -ता—(स्त्री.)

निर्दयता, क्रूरता ।

नृसदन—(सं. पुं.) यज्ञगृह, यज्ञशाला ।

नृसिंह—(सं. पु.) विष्णु का नरसिंह-रूपी अवतार, दस अवतारों में से चौथा अवतार, श्रेष्ठ पुरुष; -चतुर्दशी—(स्त्री.) वैशाख शुक्ला चतुर्दशी जिस दिन नृसिंह देव के उद्देश्य से व्रत किया जाता है ।

नृहनु—(सं. पुं.) शत्रुहंता, नरघातक ।

नृहरि—(सं. पु.) नृसिंहरूपी विष्णु ।

नै—(हि. अव्य.) सकर्मक भूतकालिक क्रिया के कर्ता का कारक-चिह्न जो उसके आगे लगाया जाता है ।

नेउतना—(हि. क्रि. स.) निमंत्रण देना ।

नेउला—(हि. पुं.) देखें 'नेवला' ।

नेउली—(हि. स्त्री.) हठयोग का एक भेद ।

नेक—(फा. वि.) अच्छा, भला, उपकारी, दानशील; -चलन—(वि.) सदाचारी; -चलनी—(स्त्री.) सदाचार; -नाम—(वि.) सुख्यात; -नामी—(स्त्री.) सुख्याति; -नीयत—(वि.) अच्छी नीयत-वाला; -नीयती—(स्त्री.) भलमन-साहत, ईमानदारी ।

नेकरी—(हि. स्त्री.) समुद्र की लहर का हिलोर जिससे जहाज एक ओर ढरता है ।

नेकी—(फा. स्त्री.) भलाई, उपकार, अच्छा काम, हित; -बदौ—(स्त्री.) अच्छाई और बुराई ।

नेकु—(हि. वि.) देखें 'नेक' ।

नेग—(हि. पुं.) पुरस्कार जो विवाह आदि शुभ अवसरों पर संबंधियों, आश्रितों तथा नाई, कुम्हार आदि पौनियों को दिया जाता है, इस निमित्त दिया जाने-वाला धन, पुरस्कार; -चार, -जोग—(पुं.) विवाह आदि शुभ अवसरों पर संबंधियों, आश्रितों तथा नाई, वारी आदि को प्रसन्न करने के लिये दिया हुआ पुरस्कार ।

नेगटी—(सं. वि.) रीतिका पालन करनेवाला ।

नेगी—(हि. पु.) नेग पानेवाला ।

नेगी-जोगी—(हि. पुं.) नेग पाने का अधिकारी, नेग पानेवाला ।

नेचरिया—(हि. पुं.) प्रकृतिवादी, प्रकृति से परे ईश्वर को न माननेवाला, नास्तिक ।

नेछावर—(हि. स्त्री.) देखें 'निछावर' ।

नेजक—(सं. पुं.) बोधी ।

नेजाल—(हि. पु.) भाला, वरछा ।

नेटा—(हि. पुं.) नाक से निकलनेवाला कफ ।

नठना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'नाठना' ।

नेडे—(हि. अव्य.) समीप, निकट, पास ।

नेत—(हि. पुं.) निर्धारण, टह्राव, किसी बात का स्थिर होना, निश्चय, प्रवृत्त,

व्यवस्था, संकल्प, एक प्रकार की चादर ।

नेतली—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की पतली डोरी ।

नेता—(सं. पुं.) नायक, सरदार, अगुआ, स्वामी, प्रवर्तक, मालिक, विष्णु, नीम का पेड़; (हि. पुं.) मयानी की रस्सी ।

नेति—(सं. पुं.) हठयोग का एक भेद, एक संस्कृत वाक्य जिसका अर्थ है "इति न" अर्थात् अन्त नहीं है ।

नेती—(हि. स्त्री.) मयानी में लपेटकर खींचने की रस्सी

नेतीधीती—(हि. स्त्री.) हठयोग की वह क्रिया जिसमें कपड़े की घञ्जी पेट में डालकर अतैं साफ की जाती है ।

नेतृत्व—(सं. पुं.) नायकता, अव्यक्षता ।

नेत्र—(सं. पुं.) चक्षुर्निद्रिय, चक्षु, नयन, आँख, एक प्रकार का वस्त्र, मयानी की रस्सी, पेड़ की जड़, जटा, रथ, नाड़ी, वस्ति कर्म की सलाई, हैहय राजा पुत्र, दो की संख्या; -कनौनिका—(पुं.) आँख की पुतली; -कोप—(पुं.) आँख का परदा; -ज—(पुं.) नेत्र से उत्पन्न आँसू; -जल—(पुं.) अश्रु, आँसू; -पाक—(पुं.) आँख का एक रोग; -पिंड—(पुं.) वितली, आँख का डेला; -बंध—(पुं.) आँख-मिचौली का खेल; -बाला—(हि. पुं.) सुगन्धवाला; -भाव—(पुं.) संगीत या नृत्य में आँखों की चेष्टा से सुख-दुःख के भाव व्यक्त करने की कला; -मंडल—(पुं.) आँख का डेला; -मल—(पुं.) आँख का कीचड़; -योनि—(पुं.) इन्द्र, चन्द्रमा; -रंजन—(पुं.) कज्जल, काजल; -रोम—(पुं.) आँख की बरौनी; -वारि—(पुं.) अश्रुजल, आँसू; -विप—(पुं.) एक प्रकार का सर्प जिसकी आँख में विप रहता है; -संधि—(स्त्री.) आँख का कोना; -स्तंभ—(पुं.) आँख की पलकों की क्रिया बन्द हो जाना; -त्राव—(पुं.) आँखों से पानी बहना ।

नेत्रांत—(सं. पुं.) अपांग, कनपटी ।

नेत्रांब, नेत्रांभसु—(सं. पुं.) अश्रु, आँसू ।

नेत्राभिष्यंद—(सं. पुं.) आँख आने का रोग ।

नेत्रामय—(सं. पुं.) आँख का एक रोग ।

नेत्री—(सं. स्त्री.) लडगी, नाड़ी, नदी, अन्नगामिनी, राह बतलानेवाली ।

नेत्रोत्सव—(सं. पुं.) वह वस्तु जिसको देखने से आनन्द मिले ।

नेनुआ, नेनुधा—(हि. पुं.) एक प्रकार की तरकारी, धिगातरौरी ।

नेप—(सं. पुं.) पुरोहित, उपक, जल ।

नेपथ्य—(सं. पुं.) वेश, मूषण, अभिनय, नाटक आदि में परदे के भीतर का वह स्थान जिसमें नट-नटी नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं ।

नेपाल—(पुं.) सारतवर्ष के उत्तर का एक स्वाधीन हिन्दू राज्य; -जा—(स्त्री.) मनःशिल, मैनसिल ।

नेपाली—(हि. वि.) नेपाल-संबंधी, नेपाल में होनेवाला; (पुं.) नेपाल का निवासी; (स्त्री.) नेपाल की भाषा ।

नेव—(हि. पुं.) सहायक, मन्त्री, दीवान ।

नेवू—(हि. पुं.) देखें 'नीवू' ।

नेम—(सं. पुं.) काल, समय, अवधि, सप्पड, टुकड़ा, छल, कपट, गड्ढा, अन्न, सायं-काल, मूल, जड़ ।

नेम—(हि. पुं.) नियम, बंधेज, रीति, निरन्तर होनेवाली बात, धर्म-भावना से ब्रतादि क्रियाओं का पालन; -धरम—(पुं.) व्रत, पाठ-पूजा आदि ।

नेमत—(हि. स्त्री.) वैभव ।

नेमधिति—(सं. स्त्री.) संग्राम, युद्ध ।

नेमि—(सं. स्त्री.) पहिये का घेरा, चक्कर, कुएँ की जगत, वज्र, एक दैत्य का नाम, एक जैन तीर्थंकर, प्रांत, भाग; -दृक्ष—(पुं.) सफेद खर का पेड़ ।

नेमी—(हि. वि.) धर्म की दृष्टि से पाठ, पूजा, व्रत, उपवास आदि नियमों का पालन करनेवाला ।

नेथ—(सं. वि.) लाने योग्य ।

नेथावैता—(सं. स्त्री.) काव्य-दोष का एक भेद ।

नेरवती—(हि. स्त्री.) नीले रंग की एक पहाड़ी भेद ।

नेरे—(हि. अव्य.) निकट, समीप, पास ।

नेव—(हि. पुं.) देखें 'नेव' ।

नेवग—(हि. पुं.) देनो 'नेव' ।

नेवगी—(हि. पुं.) देनो 'नेगी' ।

नेवछावर—(हि. स्त्री.) देखें 'निछावर' ।

नेवज—(हि. पुं.) काव्य-दोषों में देवता को अप्रण किया जाय, नैवेद्य, भोग ।

नेवतना—(हि. क्रि. स.) निमंत्रण देना, नेवता नेजना ।

नेवतहरी—(हि. पुं.) वह जिसको निमंत्रण दिया जाय ।

नेवता—(हि. पुं.) देखें 'नेवता' ।

नेवर—(हि. पुं.) पैर या गहना, नग्न, घोड़े के पैर से पैर की रगड़; (वि.) बुरा, गराब ।

नेवस्ता—(हि. क्रि. स.) निमंत्रण देना, नेवता नेवता ।

नेवला—(हि. पुं.) वज्र-दोष-रहित भेद रंग का मिश्रण ।

मांसाहारी पिण्डज जन्तु जो खिलों में रहता है, (यह सर्प को मार डालता है।)
नेवा-(हि.पुं.) लोकोक्ति, कहावत; (वि.) सद्गुण, समान।

नेवाज-(हि. वि.) देखें 'निवाज'।

नेवाड़ा-(हि. पुं.) देखें 'निवाड़ा'।

नेवारना-(हि. क्रि. स.) देखें 'निवारना'।

नेवार-(हि. पुं., स्त्री.) देखें 'निवार'।

नेवारी-(हि. स्त्री.) वनमल्लिका, जूही की जाति का एक पौधा।

नेष्ट-(सं.वि.) अनिष्ट, शास्त्र से निषिद्ध।

नेष्टु-(सं. पुं.) लोष्ट, ढेला।

नेसकुन-(हि.पुं.) वन्दरों का जोड़ा खाना।

नेसुक-(हि. वि.) अल्प, थोड़ा, तनिक; (अव्य.) अल्प मात्रा में, थोड़ा सा।

नेह-(हि.पुं.) स्नेह, प्रीति, प्रेम, तेल या घी।

नेही-(हि. वि.) प्रेमी, स्नेह करनेवाला।

नै-(हि. स्त्री.) नीति।

नैऋत-(हि. वि.) देखें 'नैऋत्य'।

नैक-(सं. वि.) अनेक, बहुत; (पुं.) विष्णु; (हि. वि.) देखें 'नेक'।

नैकचर-(सं.वि.) (जंतु) जो अकेले न चलते हों, जो झुंड में चलते हों।

नैकटिक-(सं.वि.) निकटवर्ती, समीप का।

नैकट्य-(सं. पुं.) निकटता।

नैकधा-(सं. अव्य.) अनेक प्रकार से।

नैकभेद-(सं. वि.) अनेक प्रकार का।

नैकरूप-(सं. वि.) नानारूप; (पुं.) पर-भेद्वर।

नैकवा-(सं. अव्य.) अनेक वार।

नैकपेय-(सं.पुं.) राक्षस।

नैकसानुचर-(सं. पुं.) शिव, महादेव।

नैकृतिक-(सं. वि.) कटुभाषी, कटु बोलनेवाला।

नैगम-(सं. पुं.) नय, नीति, उपनिषद्, वेद, शास्त्र, नगरवासी, नागरिक; (वि.) निगम-संबंधी, जिसमें निगम आदि का प्रतिपादन हो।

नैगमेय-(सं.पुं.) कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम।

नैची-(हि. स्त्री.) पुरवट खींचने में बैलों के आने-जाने के लिये बनी हुई ढालू भूमि।

नैज-(सं. वि.) निज-सम्बन्धी, अपना।

नैटी-(हि. स्त्री.) दुविया घास।

नैतिक-(सं. वि.) नीति-सम्बन्धी।

नैत्य-(सं. पुं.) नित्य-कर्म।

नैत्यिक-(सं. वि.) नित्यविहित, प्रतिदिन करने का।

नैदाघ-(सं.वि.) ग्रीष्म-सम्बन्धी, गरमी का।

नैशिक-(सं. पुं.) किकर, दास।

नैद्र-(सं. वि.) निद्रा-सम्बन्धी।

नैघन-(सं.पुं.) निघन; (वि.) मरण-संबंधी।

नैन-(हि.पुं.) नयन, नैत्र, नवनीत, मखन; -सुख-(पुं.) एक प्रकार का चिकना सूती कपड़ा।

नैनू-(हि. पुं.) एक प्रकार का उभड़ी हुई गोल बूटियोंवाला सूती कपड़ा, मखन।

नैपाल-(सं. वि.) नेपाल-संबंधी, नेपाल में होनेवाला; (पुं.) एक प्रकार की ऊख, नेपाल।

नैपाली-(सं.वि.) नेपाल देश का; (स्त्री.) मैनसिल, नील का पौधा।

नैपुण, नैपुण्य-(सं.पुं.) निपुणता, चतुराई।

नैमय-(सं. पुं.) व्यवसायी।

नैमित्तिक-(सं. वि.) निमित्त-संबंधी, जो किसी निमित्त से किया जाय।

नैमिषारण्य-(सं. पुं.) एक प्राचीन वन जो आजकल हिन्दुओं का तीर्थ माना जाता है, (यह स्थान सीतापुर जिले में है।)

नैमेय-(सं.पुं.) विनिमय, वस्तुओं का बदला।

नैयमिक-(सं. वि.) नियम या विधि के अनुसार होनेवाला।

नैया-(हि. स्त्री.) नाव।

नैयायिक-(सं. पुं.) न्याय-शास्त्र का जाननेवाला, न्यायाध्येता।

नैर-(हि. पुं.) देश, नगर।

नैरपेक्ष्य-(सं. पुं.) अपेक्षा का अभाव।

नैरथिक-(सं. वि.) नरक भोगनेवाला।

नैरथ्य-(सं. पुं.) निरर्थकता।

नैराश्य-(सं. पुं.) निराश होने का भाव, आशाशून्यता।

नैऋत-(सं. पुं.) राक्षस, मूल नक्षत्र; पश्चिम-दक्षिण कोण का स्वामी।

नैऋती-(सं. स्त्री.) दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच की दिशा।

नैगंध्य-(सं. पुं.) गन्धहीनता।

नैर्मल्य-(सं. पुं.) स्वच्छता, निर्मलता।

नैर्लज्य-(सं. पुं.) निर्लज्जता।

नैवेद्य-(सं. पुं.) वह भोजन-सामग्री जो देवता को चढ़ाई जाय, भोग, देव-प्रसाद।

नैश-(सं. वि.) निशा-संबंधी, रात का।

नैश्चित्य-(सं. पुं.) निश्चय।

नैषध-(सं. पुं.) निषध देश के राजा नल, श्रीहर्षरचित एक संस्कृत महाकाव्य; (वि.) निषध देश का।

नैषधीय-(सं. वि.) नल-संबंधी।

नैष्ठिक-(सं.वि.) निष्ठावान्, निष्ठायुक्त।

नैष्ठुर्य-(सं. पुं.) निठुराई, क्रूरता।

नैष्कल्य-(सं. पुं.) निष्कलता।

नैसागिक-(सं.वि.) स्वामाविक, प्राकृतिक।

नैसागिकी-(हि.वि.) स्वामाविक, प्राकृतिक।

नैसा-(हि. वि.) बुरा, खराब।

नैहर-(हि.पुं.) स्त्री के पिता का घर, मायक।

नो-(अव्य.) नहीं।

नोआ(ई)-(हि.पुं.) दूध दुहते समय गाय के दोनों पिछले पैर बांधने की रस्सी।

नोक-(फा. स्त्री.) बारीक 'सिरा'।

नोक-शोक-(हि. स्त्री.) शृंगार, ठाटवाट, सजावट, आतंक, दर्प, तेज, चुभनेवाली बात, व्यंग्य, ताना, परस्पर की छेड़-छाड़।

नोकना-(हि. क्रि. अ.) ललचना।

नोकदार-(हि. वि.) जिसमें नोक हो, चुभनेवाला, चित्त पर प्रभाव डालनेवाला, पैना, तड़क-भड़क का।

नोकपलक-(हि. स्त्री.) चेहरे की बनावट।

नोकषान-(हि. पुं.) जूते की सुन्दरता और पुष्टता।

नोकाझोकी-(हि. स्त्री.) वादविवाद, छेड़-छाड़, आपस की व्यंग्यपूर्ण बातें।

नोकीला-(हि. वि.) देखें 'नुकीला'।

नोखा-(हि. वि.) अनोखा, अपूर्व, अनूठा।

नोच-(हि. स्त्री.) नोचने की क्रिया या भाव, चारों ओर की मांग, छीनना, खसोटना; -खसोट-(स्त्री.) झटके से छीनना, छीना-झपटी।

नोचना-(हि.क्रि.स.) जमी हुई या लगी हुई वस्तु को झटके से खींचकर अलग करना, उखाड़ना, खरोचना, दुखी और विवश करके लेना, पीछे पड़ जाना, नख आदि से विदीर्ण करना।

नोच-(हि. पुं.) नोचनेवाला, तंग करके लेनेवाला।

नोण-(सं. पुं.) लवण, नमक।

नोदन-(सं.पुं.) खण्डन, प्रेरणा, चलाने या हाँकने का काम, बैल हाँकने की छड़ी, पना।

नोधा-(सं. अव्य.) नवधा, नौ प्रकार से।

नोन-(हि. पुं.) लवण, नमक।

नोनचा-(हि. पुं.) नमकीन अचार, वह भूमि जिसमें नमक अधिक पाया जाता है।

नोनछी-(हि. स्त्री.) लोनी मिट्टी।

नोना-(हि. पुं.) नमक का वह अंश जो पुरानी भीतों में लग जाता है, लोनी, मिट्टी, जहाज या नाव की पेंदी में लगनवाला एक प्रकार का कीड़ा; (वि.) नमक मिला हुआ, खारा, सुन्दर, सलोना; -चमारी-(स्त्री.) एक प्रसिद्ध जाड़गरनी जो कामरूप की रहनेवाली थी, (इसकी दोहाई अब तक संतों में दी जाती है।)

नोनिया-(हि. पुं.) लोनी मिट्टी में से नमक निकालनेवाली जाति।

नोनी—(हि.स्त्री.) लोनी मिट्टी, अमलोनी का साग; (वि.स्त्री.) रूपवती, सुन्दर, सलोनी।
 नोवना—(हि.क्रि.स.) दुहते समय गाय के पिछले पैरों को रस्सी से बाँधना।
 नोहर—(हि.वि.) दुर्लभ, अलभ्य, जो सहज। में प्राप्त न हो सके, अद्भुत, अनोखा।
 नौ—(सं. स्त्री.) नौका, नाव।
 नौ—(हि. वि., पुं.) नव, जो गिनती में आठ और एक हो, एक कम दस की संख्या, ९; (मुहा.)—दो ग्यारह होना—भाग जाना।
 नौकड़ा—(हि. पुं.) तीन आदमियों के खेलने का एक प्रकार का कौड़ी का जुआ।
 नौकर्णधार—(सं. पुं.) मल्लाह, माँझी।
 नौकर्म—(सं. पुं.) नाव चलाने का काम।
 नौका—(सं. स्त्री.) तरणि, नाव, पोत; —दंड—(पुं) नाव का डंडा।
 नौक्रम—(सं. पुं.) नाव का बना हुआ पुल।
 नौग्रही—(हि. स्त्री.) हाथ में पहिने का एक गहना।
 नौचर—(सं. वि.) नाव पर चढ़कर धूमनेवाला।
 नौचो—(हि. स्त्री.) रंडी की पाली हुई लड़की जिसको वह अपना व्यवसाय सिखलाती है।
 नौछावर—(हि. स्त्री.) देखें 'निछावर'।
 नौज—(अ. अव्य.) ईश्वर न करे, ऐसा न हो कि, न सही, न हो।
 नौजीविय—(सं. पुं.) वह जो नाव चलाकर अपनी जीविका कमाता हो।
 नौतन—(हि. वि.) देखें 'नूतन', नया।
 नौतम—(हि. वि.) अत्यन्त नवीन, बहुत नया; (पुं.) विनय, नम्रता।
 नौता—(हि. पुं.) देखें 'न्योता', निमन्वण; (वि.) नया।
 नौतेरही—(हि.स्त्री.) एक प्रकार की पुरानी ईंट, पासे से खेलने का एक प्रकार का जुआ।
 नौतोड़—(हि. वि.) नया तोड़ा हुआ, जो पहले-पहल तोड़ा गया हो; (स्त्री.) पहिली बार जोती हुई भूमि।
 नौवंड—(सं. पुं.) नाव का डंडा।
 नौधा—(हि. वि.) देखें 'नवधा', (पुं) नया लगाया हुआ फलों का बाग, वर्ष के आरंभ में बोया हुआ नील।
 नौनगा—(हि. पुं.) बाँह पर पहिने का एक गहना, भुजवंद।
 नौना—(हि.क्रि.अ.) नवना, चुकना, चुककर देड़ा होना।
 नौनार—(हि.स्त्री.) वह स्थान जहाँ नोनिया मिट्टी से नमक निकालता है।
 नौयड़—(हि. वि.) (नह) जिसको हीन (रखि) अवस्था से अच्छी दशा में

आये हुए थोड़े ही दिन हुए हों।
 नौवत—(फा. स्त्री.) बुद्धिशा, गत, स्थिति, योग, हालत, दशा, मांगलिक वाजा।
 नौवती—(फा. पुं.) नौवत बजानेवाला।
 नौमासा—(हि. पुं.) गर्म का नवाँ महीना, वह रसम जो इस मास में की जाती है।
 नौमि—(सं. क्रि. स.) एक संस्कृत का शब्द जिसका अर्थ है—मैं नमस्कार करता हूँ।
 नौमी—(हि. स्त्री.) नवमी, किसी पक्ष की नवीं तिथि।
 नौयान—(सं. पुं.) नाव आदि पर चढ़कर देश-यात्रा करना।
 नौरंग—(हि. पुं.) 'औरंगजेब' का अपभ्रंश।
 नौरंगी—(हि. स्त्री.) देखें 'नारंगी'।
 नौरत्न—(हि. पुं.) देखें 'नवरत्न', एक प्रकार का गहना, एक प्रकार की चटनी जिसमें—खटाई, गुड़, मिच, शीतलचीनी, केशर, इलायची, जावित्री, सौंफ और जीरा—ये नौ चीजें पड़ती हैं।
 नौरस—(हि. वि.) जिसका रस नया हो, नवयुवक।
 नौरूप—(हि. पुं.) नील की उपज की पहिली कटाई।
 नौल—(हि. पुं.) जहाज पर माल लादने का भाड़ा।
 नौलखा, नौलखा—(हि. वि.) जिसका मूल्य नव लाख हो, बहुमूल्य, अनमोल।
 नौलखा—(हि. स्त्री.) जुलाहों की वह लकड़ी जिसमें ताने बनाये जाते हैं।
 नौला—(हि. पुं.) देखें 'नेवला', नकुल।
 नौलासी—(हि. वि.) मूठ, कोमल।
 नौवाह—(सं. वि.) जिससे नाव चलाई जाती है, नाव का डंडा।
 नौविद्या—(सं. स्त्री.) जहाज आदि चलाने की विद्या।
 नौसत—(हि.स्त्री.) सोलहों सिंगार, (शृंगार)।
 नौसरा—(हि. पुं.) नौ लड़ों की माला या हार।
 नौसादर—(हि. पुं.) एक तीक्ष्ण झालदार धार या नमक जो सींग, हड्डी, खुर, बाल आदि खीलाकर भनके से अर्क खींचा जाता है।
 नौसिख—(हि. वि.) नया सीखा हुआ, नव-शिक्षित।
 नौसिखिया, नौसिखुआ—(हि. वि.) जो किसी विद्या या कला को सीखकर पटु न हुआ हो।
 नौसेना—(सं. स्त्री.) जलसेना, वह सेना जो जहाजों पर से लड़ती है।
 नौहंड—(हि. पुं.) मिट्टी की नई हाँड़ी, तारी हाँड़ी।

नौहंडा—(हि. पुं.) पितृपक्ष, श्राद्धपक्ष।
 न्यकुभूह—(सं. पुं.) सोनापाठा, अमलतास।
 न्यंगशिरस—(सं. पुं.) ककुभ राग, छन्द।
 न्यक्ष—(सं. पुं.) मैसा, जमदग्नि, परशुराम।
 न्यग्रोध—(सं. पुं.) बट वृक्ष, वरगद, धामी वृक्ष, पुरसा, विष्णु, महादेव, उग्रसेन राजा के एक पुत्र का नाम।
 न्यग्रोधिका—(सं. स्त्री.) मूसाकानी नामक लता।
 न्यय—(सं. पुं.) अपचय, नाश।
 न्यवद—(सं. पुं.) दस अरब की संख्या।
 न्यस्त—(सं. वि.) फका हुआ, डाला हुआ, त्यक्त, छोड़ा हुआ, रखा हुआ, धरा हुआ, स्थापित, बैठायी हुआ; —बैह—(पुं.) मृत शरीर; —शस्त्र—(वि.) जिसने हथियार रख दिया हो।
 न्यस्य—(सं. वि.) स्थापनीय, रखने योग्य, छोड़ने योग्य।
 न्याउ—(हि. पुं.) देखें 'न्याय'।
 न्याति—(हि. स्त्री.) ज्ञाति, जाति।
 न्याय—(सं. पुं.) नियमों के अनुकूल बात उचित बात, नीति, अधिकारी और अनधिकार, दोषी और निर्दोष आदि का निर्णय, या फैसला; (प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय आदि) निगमनात्मक पंचावयव वाक्य, वह शास्त्र जिसमें कानूनी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिये व्यवस्थित विवेचन किया जाता है, छः आस्तिक दर्शनों में से एक जिसके प्रवर्तक गौतम ऋषि थे, वे युक्तिमूलक दृष्टान्त जिनमें अनुभवसिद्ध नाना प्रकार की उपपत्तियाँ प्रचलित हैं, जो लौकिक न्याय कहलाती; यथा—युगाक्षर न्याय, ऊपर-वृष्टि न्याय, कूपमण्डक न्याय आदि; —कर्ता—(पुं.) न्याय करनेवाला, दो पक्षों के विवाद का निर्णय करनेवाला; —तः—(अव्य.) धर्म और नीति के अनुसार, ठीक तरह से; —ता—(स्त्री.) न्याय का भाव, अनुकूलता; —देश—(पुं.) विचारालय; —पथ—(पुं.) नीतिशास्त्र, उचित रीति; —परता—(स्त्री.) न्यायी होने का भाव; —परायण—(वि.) न्याय पर, न्याय पर चलनेवाला; —प्रती—(वि.) देखें 'न्याय पर'; —जान्—(पुं.) न्याय के अनुसार चलनेवाला, न्यायी, विवेकी; —विहित—(वि.) न्याय के अनुसार अथवा नियमपूर्वक किया गया; —विषय—(वि.) न्याय प्रमाण के विषय; —तमा—

(स्त्री.) वह सभा जहाँ विवादों का निर्णय किया जाता है, न्यायालय।
 न्यायाधीश—(सं.पु.) विवाद का निर्णय करने वाला अधिकारी, न्यायकर्ता, न्यायमूर्ति।
 न्यायालय—(सं.पु.) वह स्थान जहाँ विवादों या अभियोगों का न्याय किया जाता है।
 न्यायी—(सं. वि.) न्यायपर, न्याय करने वाला, उचित पक्ष का ग्रहण करनेवाला।
 न्याय्य—(सं. वि.) न्यायसंगत, न्याययुक्त, उचित।
 न्यारा—(हिं. वि.) जो पास न हो, दूर का, जो मिला न हो, अलग, निराला, अनोखा, भिन्न, अन्य।
 न्यारिया—(हिं. पुं.) सोनारों के नियार (धातु-मल) को धोकर इसमें से सोना-चाँदी के कण या चूर निकालनेवाला।
 न्यारे—(हिं. अव्य.) दूर, अलग, पास नहीं, पृथक्।
 न्याव—(हिं. पुं.) नियम, नीति, आचरण, पद्धति, उचित-अनुचित की वृद्धि, कर्तव्य, ठीक निर्धारण, उचित पक्ष, विवाद या झगड़े का निवटारा, दो पक्षों के विवाद का निर्णय।
 न्यास—(सं. पुं.) उपनिधि, धरोहर, थाती, निक्षेप, स्थापन, रखना, अर्पण, त्याग, संन्यास, किसी रोग या बाधा की शान्ति के निमित्त रोगी या बाधाग्रस्त मनुष्य के एक-एक अंग पर हाथ रखकर मन्त्र पढ़ने का विधान, तान्त्रिक पद्धति के अनुसार देवता के भिन्न-भिन्न अंगों का ध्यान करते हुए मन्त्र पढ़कर उन पर विशेष वर्णों का स्थापन, (अंगन्यास, करन्यास, अंतर्मातृका-न्यास, तथा बाह्य मातृका-न्यास इसके प्रधान भेद हैं।)
 न्यासिक—(सं. वि.) धरोहर रखनेवाला।
 न्यासिन्—(सं. वि.) त्यागी, संन्यासी।
 न्युञ्ज—(सं. नपुं.) कर्मरङ्ग फल, कमरख, कुश, एक प्रकार का यज्ञपात्र; (वि.) कुञ्ज, कुवड़ा, अधोमुख, आँघा, रोग से जिसकी कामर झुक गई हो।
 न्यून—(सं. वि.) क्षुद्र, हीन, अल्प, नीच, कम, थोड़ा; -त्तर—(वि.) प्रचलित वाट के परिमाण से कम, ठीक वजन से कम; -ता—(स्त्री.) हीनता, अल्पता, कमी।
 न्यूनग—(सं. वि.) अंगहीन, खंज, लँगड़ा।
 न्यूनद्रिय—(सं. वि.) जिसकी कोई इन्द्रिय कम हो।
 न्योछावर—(हिं. स्त्री.) देखें 'निछावर'।
 न्योजी—(हिं. स्त्री.) लीची, चिलगोजा।
 न्योतना—(हिं. क्रि. स.) निमंत्रित करना,

बूलाना, दूसरे को अपने घर भोजन के लिये बुलाना।
 न्योतनी—(हिं. स्त्री.) खाना-पीना जो विवाहादि शुभ अवसरों पर होता है।
 न्योतहरी—(हिं. पुं.) न्योते में आया हुआ मनुष्य।
 न्योता—(हिं. पुं.) उत्सव आदि में सम्मिलित होने के लिये निमन्त्रण, बुलावा, भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना, वह धन आदि जो अपने इष्ट मित्रों या संबंधियों के घर से शुभ या अशुभ प्रयोजनों में सम्मिलित होने का न्योता पाकर भेजा जाता है।
 न्योला—(हिं. पुं.) देखें 'नेवला'।
 न्योली—(हिं. स्त्री.) नेतीघाती आदि के समान हठ योग की एक क्रिया जिसमें पेट की नलियों को जल द्वारा शुद्ध करते हैं।
 न्यौरा—(हिं. पुं.) बड़े दानों का घुंघरू, नेवर।
 न्हाना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'नहाना', स्नान करना।

प

हिन्दी तथा संस्कृत वर्णमाला के व्यञ्जन वर्णों का इक्कीसवाँ अक्षर, (इसका उच्चारण ओठ से होता है। इसके उच्चारण में दोनों ओठ मिलते हैं। अतएव यह स्पर्श-वर्ण कहलाता है।)
 पंक—(सं. पुं.) कीचड़, दलदल, लेप; -ज—(पुं.) कमल; (वि.) जो कीचड़ में उत्पन्न हो; -जात—(पुं.) पंकज।
 पंकजासन—(सं. पुं.) ब्रह्मा।
 पंकजिनी—(सं. स्त्री.) कमल का पौधा।
 पंकिल—(सं. वि.) पंकयुक्त, कीचवाला।
 पंकिलता—(सं. स्त्री.) क्लृप्त, कालिमा, गंदगी।
 पंक्ति—(सं. स्त्री.) श्रेणी, कतार, पाँत, पंगत; -बद्ध—(वि.) श्रेणीबद्ध।
 पंख—(हिं. पुं.) पक्ष, पर, डैना; (मुहा.) -जमना-नाश होने के चिह्न दिखाई देना; -लगना-वेगयुक्त होना।
 पंखड़ी—(हिं. स्त्री.) फूल की कोमल पत्ती, पुष्पदल।
 पंखा—(हिं. पुं.) वह पदार्थ जिसको हिलाकर वायु का झोंका एक ओर ले जाते हैं, व्यजन, विजना, वेना; -कुली—(पुं.) पंखा खींचने के लिये नियुक्त भूत्य।
 पंखाज—(हिं. पुं.) देखें 'पंखावज'।
 पंखापोश—(हिं. पुं.) पंखे के ऊपर का ढपना।
 पंखी—(हिं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, पंखड़ी, फाँतगा, एक प्रकार का ऊनी कपड़ा; (स्त्री.) छोटा पंखा, पहिये का कीचड़

रोकने की धातु या लकड़ी की पट्टी।
 पँखुड़ा, पँखुरा—(हिं. पुं.) कंधा और बाँह का जोड़, पखुरा।
 पँखुरी—(हिं. स्त्री.) फल का दल, पंखड़ी।
 पंखरू—(हिं. पुं.) पक्षी।
 पंग—(हिं. वि.) पंगु, लँगड़ा, स्तब्ध; (पुं.) एक प्रकार का वृक्ष, एक प्रकार का नेमक।
 पंगत, पंगति—(हिं. स्त्री.) पंक्ति, पाँत, भोज के समय भोजन करनेवालों की पंक्ति, सभा, समाज, भोज, जुलाहों के करगह का दो सरकंडों का बना हुआ एक उपकरण।
 पंगला, पंगा—(हिं. वि.) पंगु, लँगड़ा।
 पंगायत—(हिं. पुं.) चारपाई का पैताना।
 पंगी—(हिं. स्त्री.) धान की उपज में लगनेवाला एक प्रकार का कीड़ा, वह मिट्टी जो बाढ़ के घट जाने पर जम जाती है।
 पंगु—(सं. वि.) जो पैर से काम लेने में अशक्य हो, लँगड़ा; -ता—(स्त्री.) पंगु अवस्था, लँगड़ापन; -त्व—(पुं.) पंगुता।
 पंगुल—(सं. वि.) पंगु।
 पंच—(हिं. पुं.) पाँच की संख्या या अंक, पाँच या अधिक मनुष्यों का समुदाय, समाज, सर्वसामान्य, जनता, पाँच या अधिक मनुष्यों का समुदाय जो किसी झगड़े को तय करने के लिये चुना जाता है, न्यायसभा; -की भीख—(स्त्री.) सामान्य लोगों की कृपा; -की दुहाई—(स्त्री.) न्याय के निमित्त सब लोगों से प्रार्थना; -परमेस्वर—एक मत होकर पंच का निर्णय, (यह ईश्वर का वाक्य माना जाता है; (क्रि. प्र.) -मानना—विवाद के निवटारे के लिये पंच नियुक्त करना; -क—(पुं.) पाँच का समूह, शकुन विचार में धनिष्ठा आदि पाँच नक्षत्र जिनमें किसी नये कार्य का आरंभ करना निषिद्ध है, वह जिसके पाँच अवयव हों; -कन्या—(स्त्री.) पुराण के अनुसार वे पाँच स्त्रियाँ जो सर्वदा कन्या ही रहें; (इनके नाम—अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा और मन्दोदरी हैं); -कपाल—(पुं.) एक प्रकार का यज्ञ; -कर्म—(पुं.) वैशेषिक के अनुसार उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन—ये पाँच कर्म; -कर्मद्रिय—(पुं.) हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ और जिह्वा; -कल्याण—(पुं.) वह घोड़ा जिसका सिर चारों ओर सफेद हो तथा शेष शरीर किसी एक रंग का हो; -कषाय—(पुं.) पाँच प्रकार के कसैले द्रव्य, यथा—जामुन

सेमर, खिरैटी, मीलसिरी और बैर;
 -काम-(पुं.) तन्त्र के अनुसार काम-
 देव के पाँच नाम, यथा-काम, मन्मथ,
 कंदर्प, मकरध्वज और मीनकेतु; -कुर-
 (हिं. स्त्री.) एक प्रकार की बँटाई जिसमें
 भूस्वामी को उपज का पाँचवाँ भाग दिया
 जाता है; -कोण-(पुं.) पाँच कोने का
 क्षेत्र; -कोशी-(स्त्री.) पाँच कोसों की
 लंबाई-चौड़ाई के बीच में बसी हुई
 काशी नगरी; -गंगा-(पुं.) गंगा, यमुना,
 सरस्वती, किरणा और घृतपापा-इन
 पाँच नदियों का समूह; -गंगा-(स्त्री.)
 काशी का एक प्रसिद्ध स्थान जहाँ गंगा में
 किरणा और घृतपापा नदियाँ मिली थीं,
 (ये दोनों नदियाँ अब लुप्त हो गई हैं);
 -गल-(पुं.) वीजगणित में पंच वर्ण-
 युक्त राशि; -गव्य-(पुं.) गो-संबंधी
 पाँच प्रकार के द्रव्य, यथा-दूध, दही,
 घी, गोबर और गोमूत्र; -गुण-(पुं.)
 ज्ञानेन्द्रियों के पाँचगुण, यथा-शब्द, स्पर्श,
 रूप, रस और गन्ध; (वि.) पाँच से
 गुणा किया हुआ; -गौड़-(पुं.) ब्राह्मणों
 का वह विभाग जिसके अन्तर्गत सार-
 स्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, मैथिल और
 औत्कल हैं; -चक्र-(पुं.) तंत्र के अनु-
 सार पाँच प्रकार के चक्र जिनके नाम-
 राजचक्र, महाचक्र, देवचक्र, वीरचक्र
 और दशचक्र हैं; -चामर-(पुं.) एक
 छन्द का नाम जिसके प्रत्येक चरण में
 सोलह अक्षर होते हैं; -जन-(पुं.)
 पुरुष; देव, मनुष्य, नाग गंधर्व और पितर;
 एक प्रजापति का नाम, राजा सगर
 के एक पुत्र का नाम; -जन्य-(पुं.)
 एक प्रसिद्ध शंख जिसको श्रीकृष्ण बजाया
 करते थे; -तंत्र-(पुं.) विष्णु शर्मा विर-
 चित एक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ का नाम;
 -तत्त्व-(पुं.) पाँच तत्त्वों का समुदाय
 जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश
 हैं; -तप-(पुं.) अपने चारों ओर अग्नि
 जलाकर शीष्म-काल में खुली धूप में
 बैठकर तपस्या करनेवाला; -तपा-
 (पुं.) अपने चारों ओर आग जलाकर
 तथा धूप में बैठकर तप करनेवाला साधु,
 पंचाग्नि तापनेवाला; -तर-(पुं.)
 पाँच वृक्ष, यथा-मन्दार, पारिजात,
 सन्तान, कल्पवृक्ष और हरिचन्दन;
 -ता-(स्त्री.) मृत्यु; -तालेद्वर-(पुं.)
 गुद्ध जाति का एक राग; -तित्त-(
 पुं.) पाँच प्रकार की कटु औषधियाँ
 यथा-गिलोय, कंठकारी, साँठ, कुट और

चिरायता; -त्व-(पुं.) मरण, मृत्यु;
 -दश-(वि.) पंद्रह, पंद्रहवाँ; (पुं.) पंद्रह
 की संख्या; -०घा-(अव्य.) पंद्रह
 प्रकार से; -दशाह-(पुं.) पंद्रह दिनों
 का समय; -दशी-(स्त्री.) पूर्णिमा,
 अमावस्या; -देवता-(पुं.) पाँच प्रधान
 देवता जिनकी उपासना आजकल हिन्दुओं
 में प्रचलित है; यथा-आदित्य, गणेश,
 देवी, रुद्र और विष्णु; -द्राविड़-
 द्राविड़ राज्य के अधीन पाँच प्रधान जन-
 पदों के ब्राह्मण जो द्राविड़, आन्ध्र,
 कर्णाटक, महाराष्ट्र और गुजरात हैं, -घा-
 (अव्य.) पाँचों प्रकार से; -नद-(पुं.)
 पंजाब प्रदेश जहाँ सतलज, व्यास, रावी,
 चनाव और झेलम-ये पाँच नदियाँ बहती
 हैं, पाँच नदियों का समुदाय; -नाथ-
 (पुं.) बदरीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ,
 रंगनाथ और श्रीनाथ; -पक्षी-(पुं.)
 प्रस्तादि द्वारा शकुन जानने का शिवांश
 एक शास्त्र; -पणिका-(स्त्री.) गोरक्षी
 नाम का पौधा; -पर्व-(पुं.) चतुर्विंशती,
 अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और रवि-
 संक्रान्ति-ये पाँच दिन; -पल्लव-(पुं.)
 आम, जामुन, कैय, विजौरा और बेल,
 अथवा आम, पीपल, बर, पाकर और
 ओटुम्बर के पत्त; -पात्र-(पुं.) चौड़े
 मुख का गिलास के आकार का पात्र
 जो पूजा आदि में जल रखने के काम में
 आता है; -पाद-(वि.) पाँच पैरोंवाला;
 (पुं.) संवत्सर; -पितृ-(पुं.) जन्मदाता,
 उपनेता या आचार्य, कन्यादाता, अन्नदाता
 और भयत्राता-ये पाँच पिता माने
 जाते हैं; -पुष्प-(पुं.) देवताओं को प्रिय
 पाँच प्रकार के फूल, यथा-चम्पा, आम,
 शमी, कमल और कनेर के फूल; -प्राण-
 (पुं.) शरीर-स्थित पाँच प्राणवायु
 जिनके नाम-प्राण, अपान, समान, उदान
 और व्यान हैं, हृदय-देश में प्राण वायु,
 गुह्य-देश में अपान वायु, नाभि-देश में
 समान, कण्ठ-देश में उदान वायु तथा
 सम्पूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त
 रहती है; -प्राण-(पुं.) कामदेव के
 पाँच वाण जिनके नाम-स्तनन, शोषण,
 तापन, मोहन और उन्मादन हैं; काम-
 देव के पाँचों पुष्पवाणों के नाम-कमल,
 अशोक, आम्र, नवमल्लिका और नीलो-
 त्पल ह; -खाद्य-(पुं.) शिव, महादेव;
 -भद्र-(पुं.) वह घोड़ा जिसके शरीर पर
 पाँच स्थानों में फूल के चिह्न हों; -भूत-
 (पुं.) पृथिवी, जल, तेज, वायु और

आकाश; -म-(वि.) पाँचवाँ, सुन्दर,
 दक्ष, निपुण; (पुं.) संगीत के सात
 स्वरों में से पाँचवाँ स्वर; -मकार-
 (पुं.) तन्त्र के अनुसार-मद्य, मांस,
 मत्स्य, मुद्रा और मयुन-ये पाँच मकार;
 -महापातक-(पुं.) मनुस्मृति के अनुसार
 पाँच बहुत बड़े पातक जिनके नाम-
 ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरु की
 स्त्री से व्यभिचार तथा इन पातकों के
 करनेवालों के साथ संसर्ग; -महापद्म-
 (पुं.) पाँच कृत्य जिनका नित्य करना
 गृहस्थों के लिये परम आवश्यक है-इनके
 नाम-अध्ययन तथा अध्यापन (बह्म-
 यज्ञ), अन्न तथा उदक द्वारा पितृलोकों
 का तर्पण (पितृयज्ञ), हवन या होम
 (देवयज्ञ), पशु-पक्षी को अन्न खिलाना
 (भूतयज्ञ) तथा अतिथि-सेवा (मनुष्य-
 यज्ञ) हैं; -महाव्याधि-(स्त्री.) पाँच
 बड़े रोग, यथा-अर्श (बवासीर), यक्ष्मा,
 कुष्ठ, प्रमेह और उन्माद; -महाशत-
 (पुं.) अहिंसा, सूनृत या सच बोलना,
 अस्तेय या चोरी न करना, ब्रह्मचर्य
 और अपरिग्रह या दान-दक्षिणा न लेना;
 -भार-(पुं.) बलदेव के एक पुत्र
 का नाम; -मात्स्य-(पुं.) कोकिल,
 कोयल; (वि.) पाँच महीने का; -मुद्ग-
 (पुं.) सिंहा, शिव, महादेव, पंचमुखी
 रुद्राक्ष; -मुखी-(स्त्री.) बड़स का
 फूल, पार्वती; -मुद्रा-(स्त्री.) पूजा-
 विधि में करने की पाँच प्रकार की
 मुद्राएँ, यथा-आवाहनी, स्थापनी, सप्ति
 धापनी, सन्धोविनी और सम्मुखीकरणी;
 -यान-(पुं.) दिवस, दिन; -रत्न-
 (पुं.) पाँच प्रकार के रत्न, कुछ लोग-
 सोना, हीरा, नीलग, लाल और मोती
 को पंचरत्न कहते हैं, कुछ लोग-मोती,
 मृगा, वैक्रान्त, हीरा और पद्मा को
 पंचरत्नों में गिनते हैं; -रश्मि-(पुं.)
 आदित्य, नूर्य जिसकी किरणों में विंगल,
 शुक्ल, नील, पीत और लोहित-ये पाँच
 रंग हैं; -रत्ता-(स्त्री.) आम्र, हरी-
 तकी, हरि; -रात्र-(पुं.) पाँच रातों में
 होनेवाला यज्ञ, पाँच रात; -रागिण-
 (पुं.) गणित जिसमें चार भावरागियों में
 पाँचवीं रागि निकाली जाती है; -राग-
 (पुं.) संगीत में एक ताल का नाम;
 -रत्न-(पुं.) मकरभंड; -रत्न-
 (पुं.) बेलक के अनुसार पाँच मंत्र; यथा-
 काच, मेघा, साम्ना, पिट् और सोचर;
 -लोकपाल-(पुं.) पाँच लोकपाल,

यथा-विनायक, दुर्गा, वायु और दोनों अश्विनीकुमार; -लोह-(पुं.) सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा और रौंदा-ये पाँच धातुएँ पंचलोह कहलाती हैं; -वस्त्र-(पुं.) शिव, महादेव; -वटी-(स्त्री.) दण्ड-कारण्य का एक वन जहाँ वनवास के समय श्री रामचन्द्र रहते थे; -वदन-(पुं.) शिव, महादेव; -वर्ग-(पुं.) पाँच प्रहरों में होनेवाला एक यज्ञ; -वर्ण-(पुं.) प्रणव के पाँच वर्ण, यथा-अ, उ, म, नाद और विन्दु; -वर्णक-(पुं.) घतूरे का पेड़; -वाण-(पुं.) कामदेव के पाँच वाण; -वायु-(पुं.) शरीर में स्थित-प्राण, अपान, समान, उदान और ध्यान-ये पाँच वायु; -वार्षिक-(वि.) हर पाँचवें वर्षका; -विध-(वि.) पाँच प्रकार का; -वृत्ति-(स्त्री.) पतंजलि के अनुसार मन की पाँच वृत्तियाँ, यथा-प्रमाद, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति; -शः-(अव्य.) पाँच-पाँच करके; -शर-(पुं.) कन्दर्प, कामदेव, कामदेव के पाँच वाण; -शाख-(वि.) जिसमें पाँच शाखाएँ या विभाग हों; -शिख-(पुं.) सिंह, एक मुनि का नाम जो सांख्य शास्त्र के प्रधान आचार्य थे; -शीर्ष-(पुं.) एक प्रकार का सर्प; -शुक्ल-(पुं.) एक प्रकार का कीड़ा; -संधि-(स्त्री.) व्याकरण में सन्धि के पाँच भेद; -स्नेह-(पुं.) घी, तेल, वसा, मज्जा और मोम।

पंचपात-(हिं. पुं.) पंचोली नामक पीधा। पंचपीरिया-(हिं. पु.) मुसलमानों के पाँचों पीरों का पूजन करनेवाला।

पंचभार्तरी-(हिं. स्त्री.) द्रौपदी।

पंचमेल-(हिं. वि.) जिसमें पाँच वस्तुएँ मिली हों, मिला-जुला।

पंचरंगा-(हिं. वि.) पाँच रंगों का, रंग-विरंगा।

पंचलड़ा-(हिं. वि.) पाँच लड़ों का।

पंचलड़ी, पंचलरी-(हिं. स्त्री.) गले में पहिने की पाँच लड़ों की माला।

पंचांग-(सं. पुं.) वृक्ष के पाँच अंग-छाल, पत्ता, फूल, फल और जड़, पुरश्चरण विशेष-जप, होम, तर्पण, अभिषेक और वाह्य-भोजन, ज्योतिष के अनुसार वह पंजिका जिसमें वार, तिथि, नक्षत्र, योग आदि के विवरण लिखे हों, कछुआ, एक प्रकार का घोड़ा, वह प्रणाम जो वाहू, जानू, मस्तक, वाक्य और दृष्टि के समन्वय से किया जाय।

पंचांगी-(सं. स्त्री.) हाथी की कमर में बाँधने का रस्ता।

पंचांगुरि-(सं. वि.) पाँच अँगुलियों का; (स्त्री.) हाथ।

पंचांगुल-(सं. वि.) जो पाँच अंगुल का हो; (पुं.) तेजपत्ता, रेंड।

पंचाक्षर-(सं. पुं.) प्रणव, पाँच अक्षरों का मन्त्र।

पंचाग्नि-(सं. पुं.) पाँच प्रकार की अग्नियाँ यथा-(अन्वाहार्यपचन, गार्हपत्य, सम्भ्य, आहवनीय और आवरुध्य।

पंचातप-(सं. पुं.) धूप में बैठकर अपने चारों ओर अग्नि जलाकर तपस्या करना।

पंचानन-(सं. पुं.) शिव, महादेव, सिंह, सिंह राशि, संगीत में स्वर-साधन की एक रीति।

पंचाननी-(सं. स्त्री.) शिव की पत्नी, दुर्गा।

पंचानव-(हिं. वि.) नव्व और पाँच की संख्या का; (पुं.) नव्वे और पाँच की संख्या, ९५।

पंचामृत-(सं. पुं.) एक स्वादिष्ट पेय जो घी, दूध, दही, मधु और चीनी मिलाकर बनाया जाता है।

पंचायत-(हिं. स्त्री.) पाँच निर्वाचित मनुष्यों की वह समिति जो किसी विवाद-विषय का निर्णय करने के लिये नियुक्त की जाती है; बहुत से लोगों का एक साथ वकवाद करना, पंचों का वादविवाद।

पंचायती-(हिं. वि.) पंचायत द्वारा किया हुआ, पंचायत-संबंधी, साक्षे का, मिला-जुला, सर्वसाधारण का।

पंचायुध-(सं. पुं.) विष्णु का एक नाम।

पंचाल-(सं. पुं.) एक प्राचीन देश का नाम।

पंचालिका-(सं. स्त्री.) पुतली, गुड़िया।

पंचाली-(सं. स्त्री.) गुड़िया; (हिं. स्त्री.) द्रौपदी।

पंचावयव-(सं. पुं.) न्याय के पाँच अवयव, यथा-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन।

पंचाशिका-(सं. स्त्री.) वह रचना जिसमें पचास श्लोक या कविताएँ हों।

पंचास्य-(सं. पुं.) सिंह, महादेव।

पंचिका-(सं. स्त्री.) पाँच खण्डों या अध्यायों की रचना या पुस्तक।

पंचेन्द्रिय-(सं. पुं.) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, यथा-श्रोत्र, त्वक्, नेत्र, रसना और घ्राण; तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ, यथा-वाक्, पाणि, पायु, पाद और उपस्थ।

पंचेपु-(सं. पुं.) कामदेव के पाँच वाण।

पंचो(चौ)ली-(हिं. स्त्री.) एक पीधा जिसके डंठलों और पत्तों से एक प्रकार का

सुगन्धित तेल निकाला जाता है।

पंचौदन-(सं. पुं.) एक यज्ञ का नाम।

पंछा-(हिं. पुं.) छाला, फफोला, शीतला के दानों के भीतर भरा हुआ पानी, एक प्रकार का स्राव जो मनुष्य के शरीर अथवा पेड़-पौधों से कटने छिलने आदि के कारण निकलता है।

पंछाला-(हिं. पुं.) फफोले में का पानी।

पंछी-(हिं. पुं.) पक्षी, चिड़िया।

पंजर-(सं. पुं.) शरीर की हड्डियों का समूह, शरीर, देह, चिड़िया का पिंजड़ा, कलियुग।

पंजराखेट-(सं. पुं.) मछली पकड़ने का टोकरा।

पंजा-(फा. पुं.) पाँच उँगलियों सहित हथेली और कलाई तक का भाग, पैर की उँगलियों सहित अगला चौड़ा भाग, जते का अगला भाग जहाँ पंजा रहता है, पाँच वस्तुओं का समाहार, पंजा लड़ाने का मल्लयुद्ध, पाँच वृत्तियोंवाला ताश का पत्ता।

पंजातोड़ बैठक-(हिं. पुं.) मल्ल-युद्ध की एक युक्ति।

पंजाव-(पुं.) भारतवर्ष का वह पश्चिमोत्तर प्रदेश जिसमें सतलज, व्यास, रावी, चिनाव और झेलम-ये पाँच नदियाँ बहती हैं।

पंजाबी-(हिं. वि.) पंजाव देश का, पंजाव में होनेवाला; (पुं.) पंजाव का निवासी; (स्त्री.) पंजाव की भाषा।

पंजारा-(हिं. पुं.) रूई धुनेवाला, धुनियाँ।

पंजि-(सं. स्त्री.) पंजिका, पंचांग।

पंजिका-(सं. स्त्री.) रूई की प्योनी, तिथि, वार आदि युक्त पंचांग, पत्रिका।

पंजीरी-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मिठाई जो आटे को घी में भूनकर उसमें घनिया, सोंठ, जीरा आदि मिलाकर बनाई जाती है, (इसका व्यवहार विशेषतः नैवेद्य में होता है)।

पंजेरा-(हिं. पुं.) पात्र या बरतन झालने का काम करनेवाला।

पंड़ेरू-(हिं. पुं.) पंड़वा।

पंडल-(हिं. वि.) पीले रंग का; (पुं.) शरीर, पिण्ड।

पंडव, पडवा-(हिं. पुं.) देखें 'पांडव'।

पंड़वा-(हिं. पुं.) भैंस का वच्चा।

पंडा-(हिं. पुं.) किसी तीर्थ या मन्दिर का पुजारी, घाटिया, ब्राह्मण, रसोई-दार; (सं. स्त्री.) ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शास्त्र-ज्ञान।

पंडित—(हि. पुं.) शास्त्रज्ञ, विद्वान्, महा-
देव; —राज—(पुं.) बहुत बड़ा पंडित
या विद्वान्।

पंडितमन्त्र्य—(सं. वि.) जो अपने को बहुत
बड़ा पंडित समझता हो।

पंडिताई—(हि. स्त्री.) पाण्डित्य, विद्वत्ता।

पंडिताऊ—(हि. वि.) पंडित के योग्य
आचार-विचारवाला, पंडित-जैसा।

पंडितानी—(हि. स्त्री.) पंडित की स्त्री,
ब्राह्मणी, विदुषी।

पंडुक—(हि. पुं.) जंगल, झाड़ियों तथा
उजाड़ स्थानों में रहनेवाला कवूतर की
जाति का एक पक्षी।

पंडोह—(हि. पुं.) परनाला।

पंथ—(हि. पुं.) मार्ग, व्यवहार का क्रम,
रीति, चाल, व्यवस्था, सम्प्रदाय, धर्म,
मार्ग, मत, रोगी का लंघन या उपवास
के बाद का हूलका पथ्य या भोजन; (पुहा.)
—गहना—मार्ग चलना; —दिखाना—मार्ग
बतलाना; —निहारना—प्रतीक्षा करना;
—पर पाँव धरना—आचरण से चलना;
—पर लगना—सुमार्ग पर चलना;
(किसी के) —पर लगना—पीछा करना,
व्यंग्य करना; —सेना—आसरा देवना,
प्रतीक्षा करना।

पंथान—(हि. पुं.) पथ, मार्ग।

पंथकी, पंथक—(हि. पुं.) पथिक, बटोही।

पंथी—(हि. पुं.) पथ पर चलनेवाला, पथिक,
बटोही, किसी सम्प्रदाय का अनुयायी।

पंवरह (द्र)—(हि. वि.) दस और पाँच की
संख्या का; (पुं.) दस और पाँच की
संख्या, १५; —वाँ—(वि.) जो पंवरह के
स्थान पर हो।

पंप—(अं. पुं.) मोटर, साइकिल आदि के
पहिये में हवा भरने का यंत्र विशेष;
ऊपर के मंजिलों पर पानी चढ़ाने का यंत्र।

पंपा—(सं. स्त्री.) दक्षिण की एक नदी जिसका
उल्लेख वाल्मीकीय रामायण में है।

पंपाल—(हि. वि.) पापी।

पंपर—(हि. स्त्री.) ड्योड़ी, सामान, सामग्री।

पंपरना—(हि. क्रि. अं.) पानी में तरना,
थाह लेना, पता लगाना।

पंपरि—(हि. स्त्री.) प्रवेश-द्वार या गृह,
ड्योड़ी।

पंपरिया—(हि. पुं.) द्वारपाल, ड्योड़ीदार,
दरवान, शुभ अवसर पर द्वार पर बठकर
मंगल-गीत गानेवाला मिश्रक।

पंपरी—(हि. स्त्री.) देखें 'पंपरि', लड़ाऊँ,
पाँवरी।

पंपाड़ा (रा)—(हि. पुं.) कल्पित आर्यान्,

मनगढ़ंत कहानी, लंबी कथा जिसको सुनते-
सुनते जी ऊब जाय, विस्तारसहित कही
हुई व्यर्थ बात, एक प्रकार का गीत।

पंवार—(हि. पुं.) राजपूतों की एक जाति,
परमार।

पंवारना—(हि. क्रि. स.) हटाना, फेंकना,
दूर करना।

पंवारी—(हि. स्त्री.) लोहे में छेद करने का
लोहारों का एक अस्त्र।

पंसरहट्टा—(हि. पुं.) वह हाट जहाँ पंसा-
रियों की दूकानें हों।

पंसारी—(हि. पुं.) वह बनिया जो मसाले
तथा औषधि के लिये जड़ी-बूटी बेचता हो।

पंसासार—(हि. पुं.) पासे का खेल।

पंसुरी—(हि. स्त्री.) देखें 'पंसुली'।

पंसुली—(हि. स्त्री.) देखें 'पसली'।

पंसेरी—(हि. स्त्री.) पाँच सेर की तौल या वाट

पइता—(हि. पुं.) एक प्रकार का छंद
जिसको पाइता भी कहते हैं।

पइसना—(हि. क्रि. अं.) देखें 'पैठना', घुसना।

पइसार—(हि. पुं.) प्रवेश, पैठ, घुसना।

पजनार—(हि. पुं.) कमल का डंठल।

पजनी—(हि. स्त्री.) देखें 'पौनी'।

पजैरि, पजरी—(हि. स्त्री.) देखें 'पौरी'।

पकड़—(हि. स्त्री.) पकड़ने या धरने की
क्रिया, पकड़ने का ढंग, मिड़ंत, लड़ाई,
कुश्ती में एक बार का मिड़ना, दोप या

भूल ढूँढ़ने या निकालने की क्रिया; —
घकड़—(स्त्री.) देखें 'घर-पकड़'।

पकड़ना—(हि. क्रि. स.) धामना, धरना,
पता लगाना, रोक रखना, ठहराना,
दौड़ने, चलने आदि में आगे बढ़े हुए
व्यक्ति के बराबर हो जाना, रोकना,
टोकना, बश में लाना, (रोग से) ग्रस्त
होना, अपने स्वभाव या वृत्ति में समाने
या व्याप्त होने देना, धारण करना,
धरना, ग्रसना, संचार करना।

पकड़वाना—(हि. क्रि. स.) पकड़ने में दूसरे
को प्रवृत्त करना, ग्रहण कराना।

पकड़ाना—(हि. क्रि. स.) किसी के हाथ में
देना या रखना, पकड़ने का काम कराना,
ग्रहण कराना।

पकना—(हि. क्रि. अं.) सिद्ध होना, सीसना,
रिधना, चुरना, कच्चा न रहना, फोड़े
आदि का पीव से नर जाना, मूल्य टह-
राना, सौदा पटना, आँच साकर चुरना
या तैयार होना; (मुहा.) फलेजा

पकना—जी जलना; बाल पकना—बालों
का सफेद होना।

पकरना—(हि. क्रि. स.) देखें 'पकड़ना'।

पकला—(हि. पुं.) फोड़ा, फुन्ती।

पकवान—(हि. पुं.) घी या तेल में पकाकर
बनाया हुआ खाद्य पदार्थ।

पकवाना—(हि. क्रि. स.) पकाने का काम
दूसरे से कराना, आँच पर तैयार कराना।

पकाई—(हि. स्त्री.) पकाने की क्रिया या
शुल्क।

पकाना—(हि. क्रि. स.) फल आदि को मिष्ट
और रसदार करना, गरमी से गलाना,
आँच पर चुराना, रीचना, सिझाना,
भट्टे में तपाना, बाल सफेद करना,
फोड़ा-फुन्ती आदि को ऐसी अवस्था में
पहुँचाना कि उसमें पीव भर जाय।

पकार—(सं. पुं.) 'प' अक्षर, 'प' स्वरूप वर्ण।

पकारादि—(सं. वि.) जिसके आदि में 'प'
अक्षर हो।

पकारांत—(सं. वि.) जिसके अन्त में 'प'
अक्षर हो।

पकाव—(सं. पुं.) पकने का भाव, पीव का
भरना।

पकावन—(हि. पुं.) देखें 'पकवान'।

पकोड़ा—(हि. पुं.) घी या तेल में पकी हुई
बेसन या पीठों की बरी, फुलौरी।

पकोड़ी—(हि. स्त्री.) छोटे आकार का पकोड़ा।

पकटी—(सं. स्त्री.) पाकर का वृक्ष।

पक्करस—(हि. पुं.) मदिरा।

पक्का—(हि. पुं.) अन्न या फल जो पुष्ट हो-
कर खाने योग्य हो गया हो, जो कच्चा न
हो, पका हुआ, तैयार, अनुभव-प्राप्त,
निपुण, आँच पर गलाया या पकाया हुआ,
घी में (भोजन) बनाया हुआ, स्थिर, दृढ़,
निश्चित, जो अभ्यास से मँज गया हो,
प्रामाणिक, न छूटनेवाला (रंग), जाँचा
हुआ, जो आँच से कड़ा हो गया हो,
जिसमें पूर्णता आ गई हो, जो अपनी पूरी
बाढ़ या प्रौढ़ता पर पहुँच गया हो,
इंत या पत्थर का बना हुआ; —पगज
—(पुं.) वह पत्र जिस पर लिखा हुआ
विषय विधितः प्रामाणिक और मान्य
हो; (पुं.) —खाना—केवल घी में पकाया
हुआ भोजन; —पानी—ओटाया हुआ जल।

पक्कर—(हि. वि.) पक्का, दृढ़।

पक्कव्य—(सं. वि.) पाक के योग्य।

पक्क—(सं. पुं.) गार्हपत्य अग्नि।

पक्क—(सं. वि.) पका हुआ, पुष्ट, पक्का;

—कैना—(पुं.) पका बाण, सफेद बाण;

—ता—(स्त्री.) पक्का चर्या, परिष्कृतता;

—नान—(वि.) पकाया हुआ; —रत—

(पुं.) मद्य, मदिरा; —चारि—(पुं.)

उवाला हुआ जल।

पक्वान्न-(सं.पुं.) पकाया हुआ अन्न, खाने की वस्तु जो धी, पानी आदि के साथ आग पर पकाई गई हो।

पक्वाशय-(सं. पुं.) पेट के भीतर नामि के नीचे का भाग जो वस्तुतः उदर का ही एक अंश है, (खाया हुआ भोजन अन्न की नली द्वारा यहाँ पहुँचता है और इसमें पित्त आदि रसों के संयोग से पाचन का कार्य आरंभ होता है।)

पक्ष-(सं.पुं.) पंद्रह दिनों का काल, पाख, पक्षियों का डैना, पर, तीर में लगा हुआ पर, या पंख किसी स्थान या पदार्थ के दोनों छोर, किसी विषय के दो या अधिक परस्पर भिन्न अंगों में से एक, किसी विषय पर दो परस्पर भिन्न मतों में से एक, अनुकूल मत या प्रवृत्ति, पक्षी, पार्श्व, ओर, तरफ, हाथ का कड़ा, वादी या प्रतिवादी, घर, चूल्हे का छेद, सहायक, साथी, विवाद करनेवालों में से किसी के अनुकूल स्थिति, वह कथन जिसमें साध्य की प्रतिज्ञा की जाती है, सेना, बल, विशिष्ट वर्ग, दल या समूह; -करना -पक्षपात करना; -गिरना-युक्तियों द्वारा मत का सिद्ध न होना; -क-(पुं.) पक्षद्वार, सहाय; -गम-(पुं.) पक्षी, चिड़िया, पर्वत; -ग्रहण-(पुं.) किसी का पक्ष करना; -ग्राह-(वि.) पक्ष लेनेवाला; -घात-(पुं.) वह वात रोग जिसमें शरीर के एक ओर के अंग सुन्न हो जाते हैं, लकवा; -घ्न-(वि.) पक्षनाशक; -चर, -ज-(पुं.) चन्द्रमा; -ति-(पुं.) पक्ष-मूल, डैने की जड़; -त्व-(पुं.) पक्षग्रहण, पक्षपात; -द्वार-(पुं.) खिड़की जैसा द्वार; -धर-(पुं.) चन्द्रमा, शिव, महादेव, पक्षी; -पात-(पुं.) अनुचित और उचित का विचार न करते हुए किसी के अनुकूल प्रवृत्ति; -पातित्ता-(स्त्री.) पक्षपात; -पाती-(वि.) उचित-अनुचित का विचार न करके किसी के अनुकूल प्रवृत्त होना; -पालि-(पुं.) गुप्तद्वार; -पोषक-(वि.) पक्षसमर्थक; -मूल-(पुं.) प्रतिपदा तिथि; -रचना-(स्त्री.) किसी का पक्ष करने के लिये रचा हुआ प्रपंच; -रूप-(पुं.) शिव, महादेव; -वध-(पुं.) पक्षाघात; -वान्-(वि.) पक्षवाला, परवाला; (पुं.) पर्वत, पहाड़; -वाहन-(पुं.) पक्षी, चिड़िया।

पक्षांत-(सं. पुं.) अमावस्या, पूर्णिमा।

पक्षांतर-(सं. पुं.) दूसरा पक्ष, मतान्तर।

पक्षाघात-(सं.पुं.) एक प्रकार का वायुरोग जिसमें शरीर का आधा भाग निश्चेष्ट और क्रियाहीन हो जाता है, लकवा।

पक्षाभास-(सं. पुं.) मिथ्या तर्क।

पक्षाल्-(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया।

पक्षावसर-(सं. पुं.) पूर्णिमा, अमावस्या।

पक्षिणी-(सं. स्त्री.) चिड़िया, मादा पक्षी, पूर्णिमा।

पक्षिपति-(सं. पुं.) पक्षिराज, संपाति।

पक्षिप्रवर, पक्षिराज-(सं. पुं.) गरुड़।

पक्षिशाला-(सं.स्त्री.) चिड़ियों के रहने का घर।

पक्षि-सिंह-(सं. पुं.) पक्षिराज, गरुड़।

पक्षी-(सं. पुं.) खग, विहंगम, शकुन्त, अण्डज, चिड़िया; (हिं. वि.) पक्षपाती।

पक्ष्म-(सं. पुं.) आँख की बरौनी।

पक्ष्मल-(सं. वि.) बरौनी-युक्त।

पखंड-(हिं. पुं.) देखें 'पाखंड'।

पखंडी-(हिं. वि.) देख 'पाखंडी'।

पख-(फा. स्त्री.) व्यर्थ की बढ़ाकर कही हुई बात, वाधक चाल, अड़ंगा, झंझट, वखड़ा, त्रुटि, दोष, हानि।

पखड़ी-(हिं. स्त्री.) पुष्प-दल, फूल के रंगीन पटल जो इसको पहिले बंद किये रहते हैं और खिलने पर फैल जाते हैं।

पखनारी-(हिं. स्त्री.) चिड़ियों के पर का नली के आकार का पोला भाग।

पखपान-(हिं. पुं.) पैर में पहिनने का एक गहना।

पखरना-(हिं. क्रि. स.) घोना।

पखराना-(हिं. क्रि. स.) पखारने या घोने का काम करना।

पखरी-(हिं. स्त्री.) देखें 'पाखर, पंखड़ी'।

पखरंत-(हिं. पुं.) बैल, घोड़ा या हाथी जिस पर लोहे की पाखर डाली गई हो।

पखरौटा-(हिं. पुं.) चाँदी-सोने के महीन पत्र में लपेटा हुआ पान का वीड।

पखवाड़ा, पखवारा-(हिं. पुं.) अर्धमास, पंद्रह दिनों का समय।

पखावज-(हिं. पुं.) देखें 'पखावज'।

पखाटा-(हिं. पुं.) धनुष का कोना।

पखान-(हिं. पुं.) देखें 'पाषाण', पत्थर।

पखाना-(हिं. पुं.) उपाख्यान, कथा, कहावत, मसल, कस्तूत, देख 'पाखाना'।

पखारना-(हिं. क्रि. स.) पानी से धोकर मँल साफ करना।

पखाल-(हिं. स्त्री.) कुएँ से पानी भरने की चमड़े की बड़ी मशक, धौकनी; -पेटिया-(पुं.) बड़े पेटवाला मनुष्य।

पखाली-(हिं. पुं.) मशक में पानी भरनेवाला।

पखावज-(हिं. पुं.) मृदंग से छोटा एक प्रकार का बाजा।

पखावजी-(हिं. पुं.) पखावज बजानेवाला।

पखिया-(हिं. पुं.) झगड़ा करानेवाला, बखड़िया।

पखी-(हिं. पुं.) पक्षी।

पखुड़ी(री)-(हिं. स्त्री.) देखें 'पखड़ी'।

पखुरा(वा)-(हिं. पुं.) कंधा और बाँह के जोड़ का भाग।

पखेरू-(हिं. पुं.) पक्षी, चिड़िया।

पखेंव-(हिं. पुं.) बच्चा जनने के बाद छः दिनों तक गाय या भैंस को पिलाने का मसालेदार झोल।

पखौआ-(हिं. पुं.) पंख, पर।

पखौटा-(हिं. पुं.) डैना, पर, छोटा पंख।

पखौरा-(हिं. पुं.) कंधे पर की हड्डी।

पग-(हिं. पुं.) पैर, पाँव, चलने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैर रखने की क्रिया, डग, फाल, चलते समय दोनों पैरों के बीच का स्थान; -डंडी-(स्त्री.) मैदान या जंगल का वह पतला मार्ग जो मनुष्यों के चलने से बन गया हो।

पगड़ी-(हिं. स्त्री.) सिर पर लपेटकर, बाँधने का कपड़ा या चीरा, उष्णीष, मुटारे (मुहा.) -अटकना-झगड़ा लगना; -उछालना-किसी का अपमान करना; -उतारना-अपमान करना, ठगना; -बैधना-सम्मान या प्रतिष्ठा प्राप्त करना; उत्तराधिकारी बनना; -बदलना-माईचारा दिखलाना।

पगतरी-(हिं. स्त्री.) उपानह, जूता।

पगदासी-(हिं. स्त्री.) जूता, खड़ाई।

पगना-(हिं. क्रि. अ.) रस के साथ पककर मिलना, शीरे के साथ इस प्रकार पकना कि चाशनी भीतर प्रवेश कर जाय और चारों ओर लिपट जाय, मग्न होना, प्रेम में डूबना।

पगनियाँ-(हिं. स्त्री.) जूती।

पगपान-(सं. पुं.) पैर में पहिनने का एक गहना।

पगरना-(हिं. पुं.) नक्काशी करनेवालों का एक अस्त्र।

पगरा-(हिं. पुं.) डग, पग, यात्रा आरंभ करने का काल, तड़का, सबेर, सोने का एक आमषण।

पगरी-(हिं. स्त्री.) देखें 'पगड़ी'।

पगला-(हिं. पुं.) देखें 'पागल'।

पगहा-(हिं. पुं.) बैल आदि की बाँधने की

गराँव, पधा ।

पगा—(हिं. पुं.) पगड़ी, दुपट्टा, पधा ।

पगाना—(हिं.क्रि.स.) चाशनी में किसी वस्तु को पागने का काम दूसरे से कराना, अनुरक्त करना, मग्न करना ।

पगार—(हिं. पुं.) पैर में लगी हुई मिट्टी, कीचड़ या गारा, वह नदी या नाला जो हलकर पार किया जा सके, पैर से कुचली हुई वस्तु, वेतन ।

पगारना—(हिं.क्रि.स.) फैलाना ।

पगिआ(या)ना—(हिं.क्रि.स.) देखें 'पगाना' ।

पगिया—(हिं. स्त्री.) देखें 'पगड़ी' ।

पगुराना—(हिं. क्रि. अ.) पागुर करना, जुगाली करना, पचा जाना ।

पगा—(हिं.पुं.) पीतल, ताँबा आदि गलाने की धरिया ।

पधा—(हिं. पुं.) चौपायों को बाँधने की रस्सी, पगहा ।

पधाल—(हिं. पुं.) एक प्रकार का कड़ा लोहा ।

पधिलना—(हिं.क्रि.अ.) देखें 'पिधलना' ।

पधैया—(हिं. पुं.) गाँव-गाँव धूम-धूमकर माल बेचनेवाला व्यापारी ।

पच—(हिं. आदिपद) समस्त पदों में आदि पद के रूप में प्रयुक्त होनेवाला पाँच का वाचक शब्द ।

पचक—(हिं. पुं.) कट नामक गुल्म ।

पचकना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'पिचकना' ।

पचकल्याण—(हिं.पुं.) शुभलक्षणों वाला घोड़ा ।

पचखना—(हिं. वि.) जिसमें पाँच खण्ड हों ।

पचखा—(हिं. पुं.) देखें 'पचक' ।

पचगुना—(हिं. वि.) पाँच गुना, पाँच बार अधिक ।

पचग्रह—(हिं. पुं.) मंगल, बुध, गुरु, शुक तथा शनि ग्रहों का समूह ।

पचड़ा—(हिं. पुं.) प्रपंच, वखेड़ा, झंझट, लावनी या ह्याल के ढंग का एक प्रकार का गीत जिसमें पाँच-पाँच चरणों के खंड होते हैं ।

पचत—(सं. पुं.) सूर्य, अग्नि, इन्द्र; (वि.) परिपक्व, पका हुआ ।

पचतूरा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का राजा ।

पचतोलिया—(हिं.पुं.) पाँच तौले का वाट ।

पचन—(सं. पुं.) पकने या पकाने की क्रिया, अग्नि, पकानेवाला ।

पचना—(हिं. क्रि. अ.) भोजन किये हुए पदार्थ का रसादि में परिणत होकर शरीर का पोषण होना, शरीर का मुखना या क्षय होना, समाप्त होना, नष्ट होना, पराया माल अपने हाथ में कर लेना, अनु-

चित उपाय से प्राप्त किये हुए वन आदि का उपयोग में आना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अच्छी तरह मिल जाना, खपना; (मुहा.)—मरना—किसी काम को करने में बहुत प्रयत्न करना ।

पचनागार—(सं. पुं.) रसोईघर ।

पचनाग्नि—(सं. पुं.) जठराग्नि ।

पचनिका—(सं. स्त्री.) कड़ाही ।

पचमेल—(हिं. वि.) देखें 'पंचमेल' ।

पचनीय—(सं. वि.) पचने योग्य ।

पचपच—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

पचपचा—(हिं. वि.) वह अवपका भोजन जिसका पानी अच्छी तरह से सूखा या जला न हो ।

पचपचाना—(हिं. क्रि. अ.) आवश्यकता से अधिक गीला होना, कीचड़ होना ।

पचपन—(हिं. वि.) पचास और पाँच की संख्या का; (पुं.) पचास और पाँच की संख्या, ५५; -वाँ—(वि.) जो गिनती में चौवन के बाद हो ।

पचपल्लव—(हिं. पुं.) देखें 'पंचपल्लव' ।

पचमान—(सं. वि.) पाक करनेवाला, पकानवाला ।

पचमेल—(हिं. वि.) कई वस्तुओं या जीवों के मेल का, पंचमेल ।

पचरंग—(हिं. पुं.) चौक पूरने की सामग्रियाँ—अवीर, बूक्का, मेहदी की बूकनी, हल्दी का चूर्ण आदि ।

पचरंगा—(हिं. वि.) जिसमें मित्त-मित्त पाँच रंग हों; पाँच रंगों से रंगा हुआ, अनेक रंगों का; (पुं.) नवग्रह आदि के पूजन के लिये पूरा जानेवाला चाँक ।

पचरा—(हिं. पुं.) देखें 'पचड़ा' ।

पचलड़ी—(हिं. स्त्री.) पाँच लड़ों की माला या हार ।

पचलोना—(हिं. पुं.) वह जिसमें पाँच तरह के नमक मिलाये गये हों ।

पचवाई—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की अन्न से बनी हुई मदिरा ।

पचहत्तर—(हिं. वि.) सत्तर और पाँच की संख्या का; (पुं.) सत्तर और पाँच की संख्या, ७५; -वाँ—(वि.) जिसका क्रम चौहत्तर के बाद हो ।

पचहरा—(हिं. वि.) पाँच बार लपेटा या मोड़ा हुआ, पाँच परतों का ।

पचानक—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पत्थी ।

पचाना—(हिं. क्रि. अ.) अन्न की सहायता से चुराना, पकाना, खाई की तरंगों का जठराग्नि की सहायता से रसादि में परिणत होकर शरीर के पोषण योग्य बनना,

जीर्ण करना, नष्ट करना, क्षय करना, पराये माल को अपना लेना, समाप्त करना, अधिक परिश्रम करके शरीर को सुखाना, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ को अपने में पूर्ण रूप से मिला लेना ।

पचार—(हिं. पुं.) जुए में लगी हुई लकड़ी या बाँस ।

पचारना—(हिं. क्रि. अ.) ललकारना ।

पचाव—(हिं. पुं.) पचने की क्रिया या भाव ।

पचास—(हिं. वि.) चालीस और दस की संख्या का; (पुं.) चालीस और दस की संख्या, ५०; -वाँ—(वि.) गिनती में पचास के स्थान पर पड़नेवाला ।

पचासा—(हिं. पुं.) एक ही प्रकार की पचास चीजों का समूह ।

पचासी—(हिं. वि.) अस्ती और पाँच की संख्या का; (पुं.) अस्ती और पाँच की संख्या, ८५; -वाँ—(वि.) जो क्रम म पचासी के स्थान पर हो ।

पचित—(सं. वि.) जड़ा हुआ, बँटाया हुआ ।

पचीस—(हिं. वि.) बीस और पाँच की संख्या का; (पुं.) बीस और पाँच की संख्या, २५; -वाँ—(वि.) जो गणना में पचीस के स्थान पर हो ।

पचीसी—(हिं. स्त्री.) चौसर की विसात पर खेला जानेवाला जुआ जो सात काँड़ियों से खेला जाता है, एक ही प्रकार की पचीस वस्तुओं का समूह, किसी की आयु के आरंभ के पचीस वर्ष, फल आदि की गणना जिसका सँकड़ा पचीस गहियों या १२५ का माना जाता है ।

पचका—(हिं. पुं.) पिचकारी ।

पचीतर—(हिं. वि.) किसी संख्या से पाँच अधिक; -सी—(पुं.) एक सौ पाँच की संख्या ।

पचीनी—(हिं. स्त्री.) पाचन ।

पचीर—(हिं. पुं.) गाँव का मुखिया या सरदार, पंच ।

पचीली—(हिं. पुं.) देखें 'पगौर' ।

पचीवर—(हिं. वि.) पाँच तह या परत किया हुआ, पाँच परतों का ।

पचड़, पचर—(हिं. पुं.) लकड़ी या बाँस की कट्टी, माल या जेड़ के टुक में बाँधने की गाँवदुम लकड़ी की गुल्लकी ।

पच्ची—(हिं. स्त्री.) किसी वस्तु के ताल को छेकर उसमें दूसरी वस्तु इस प्रकार बँटाना ता बाँधना कि जोड़ने में अवकाश हो पर उभरा हुआ न जान पड़े और उसमें किसी प्रकार की खरी भी न रह जाय, किसी वस्तु के बने हुए पश्चम

पर किसी अन्य धातु के पत्तर का जड़ाव; (मुहा.) पूर्णतः हो जाना—एकदम मिलकर एक-रूप हो जाना; —कारी—(स्त्री.) पच्ची करने की क्रिया या भाव ।
 पच्छ—(हिं. पुं.) देखें 'पक्ष'; —धात—(पुं.) देखें 'पक्षधात'; —ताई—(स्त्री.) पक्षपात ।
 पच्छम, पच्छिम—(हिं. पुं.) देखें 'पश्चिम' ।
 पच्छी—(हिं. पुं.) पक्षी, चिड़िया ।
 पच्य—(सं. वि.) पकाने योग्य; —मान—(वि.) जो पकाया जा रहा हो ।
 पछड़ना—(हिं. क्रि. अ.) लड़ने में पछाड़ा जाना, देखें 'पिछड़ना' ।
 पछताना—(हिं. क्रि. अ.) किसी किये हुए अनुचित कार्य के संबंध में पीछे से दुःखी होना, पश्चात्ताप करना ।
 पछतानि—(हिं. स्त्री.) देखें 'पछतावा' ।
 पछताव—(हिं. पुं.) अनुताप, पश्चात्ताप ।
 पछतावना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'पछताना' ।
 पछतावा—(हिं. पुं.) पश्चात्ताप, कोई अनुचित काम पर होनेवाला शोक ।
 पछना—(हिं. क्रि. अ.) पाछा जाना; (पुं.) पाछने का यन्त्र ।
 पछमन—(हिं. अव्य.) पीछे ।
 पछरना—(हिं. क्रि. अ.) लौटना, पछड़ना ।
 पछरा—(हिं. पुं.) पछाड़ ।
 पछलगा—(हिं. पुं.) अनुयायी, पिछलगा ।
 पछवत—(हिं. स्त्री.) वह अनाज जो उपज के कटने पर बोया जाय ।
 पछवाँ—(हिं. वि.) पश्चिम दिशा-संबंधी, पश्चिमी; (स्त्री.) अँगिया का पीठ की ओर का भाग ।
 पछाँह—(हिं. स्त्री.) पश्चिम की ओर का प्रदेश ।
 पछाँहिया, पछाँही—(हिं. वि.) पश्चिम देश का, पछाँह का ।
 पछाड़—(हिं. स्त्री.) मूर्च्छित होकर गिरना, शोक आदि के कारण अचेत होकर गिरना, पटकना; (मुहा.)—खाना—अचानक मूर्च्छित होकर गिर पड़ना ।
 पछाड़ना—(हिं. क्रि. अ.) लड़ाई या मल्लयुद्ध में पटकना या हराना, कपड़े को धोते समय पटकना ।
 पछाड़ी—(हिं. स्त्री.) देखें 'पिछाड़ी' ।
 पछाया—(हिं. पुं.) किसी वस्तु का पिछला भाग ।
 पछारना—(हिं. क्रि. स.) कपड़े को पटककर धोना, देखें 'पछाड़ना' ।
 पछावरि—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का सिखरन, एक प्रकार का पेय ।
 पछाहें, पछाहीं—(हिं. वि.) पश्चिम प्रदेश

का, पछाँह का ।
 पछिआ (या) ना—(हिं. क्रि. स.) पीछे-पीछे चलना, पीछा करना ।
 पछिताना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'पछताना' ।
 पछिताव—(हिं. पुं.) देखें 'पछतावा' ।
 पछिनाव—(हिं. पुं.) चौपायों का एक रोग ।
 पछियाव—(हिं. पुं.) पश्चिमी वायु ।
 पछिलना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'पिछड़ना' ।
 पछिला—(हिं. वि.) देखें 'पिछला' ।
 पछि(यु)वाँ—(हिं. वि.) पश्चिम का; (स्त्री.) पश्चिम की हवा ।
 पछीत—(हिं. स्त्री.) घर का पिछवाड़ा ।
 पछुआ(वा)—(हिं. पुं.) हाथ में पहिने का एक गहना ।
 पछेड़ा—(हिं. पुं.) देखें 'पीछा' ।
 पछेलेना—(हिं. क्रि. स.) आगे बढ़ जाना ।
 पछेला—(हिं. पुं.) स्त्रियों के हाथ में पहिने का एक गहना, मठिया; (वि.) पिछला ।
 पछेली—(हिं. स्त्री.) हाथ का एक आभूषण ।
 पछोड़ना, पछोरना—(हिं. क्रि. स.) सूप आदि से अन्न फटककर साफ या स्वच्छ करना, फटकना ।
 पछौरा—(हिं. पुं.) देखें 'पिछौरा' ।
 पछयावर—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का शरवत ।
 पजर—(हिं. पुं.) चूने या टपकने की क्रिया ।
 पजरना—(हिं. क्रि. अ.) जलना ।
 पजारना—(हिं. क्रि. स.) जलाना ।
 पजावा—(हिं. पुं.) आवाँ ।
 पजोखा—(हिं. पुं.) किसी की मृत्यु पर उसके संबंधियों का शोक-प्रकाश ।
 पज्ज—(सं. पुं.) शूद्र जाति, ।
 पट—(सं. पुं.) वस्त्र, कपड़ा, चित्र बनाने का कागज या कपड़ा; लकड़ी, धातु आदि का वह पत्र जिस पर चित्र बनाया जाता है, वह चित्र जो वदरिका-श्रम, जगन्नाथपुरी आदि में यात्रियों को मिलता है, छान, छप्पर, बहली के ऊपर डालने का छप्पर, आड़, परदा, चिक, कपास, तृण, चिरौंजी का वृक्ष; (हिं. पुं.) किवाड़, सिंहासन, चिपटी तथा चौरस भूमि, पालकी का सरकनेवाला द्वार, मल्लयुद्ध की एक युक्ति, टांग, पट-पट का शब्द; (वि.) ऐसी स्थिति जिसमें पेट भूमि पर हो तथा पीठ आकाश की ओर, मंदा; (अव्य.) तुरत, शीघ्र; (मुहा.)—खुलना—देवता के दर्शन के लिए मन्दिर का द्वार खुलना; —पड़ना—(कारवार) मन्द होना, रुक जाना, न चलना । -

पटइन—(हिं. स्त्री.) पटहार की स्त्री ।
 पटक—(सं. पुं.) शिविर, तंबू, सूती कपड़ा ।
 पटकन—(हिं. पुं., स्त्री.) पटकने की क्रिया या भाव, चपत, तमाचा, छोटा डंडा या छड़ी ।
 पटकना—(हिं. क्रि. स.) किसी वस्तु को वेग के साथ ऊँचे स्थान से नीचे की झोंक देना या गिराना, किसी बैठे या खड़े हुए मनुष्य को वेग से नीचे की गिराना, मल्लयुद्ध में पछाड़ना, शब्द करते हुए किसी वस्तु का फटना, अन्न के दानों का सिकुड़ना, या पचकना; (मुहा.) किसी पर कोई काम पटकना—कोई काम करने के लिए किसी को सौंपना ।
 पटकनिया—(हिं. स्त्री.) पटकने की क्रिया या भाव, पटकान, भूमि पर गिरकर लोटने की क्रिया, पछाड़ ।
 पटकनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'पटकनिया' ।
 पटका—(हिं. पुं.) कमर में बाँधने का दुपट्टा, कमरपेच, भीत में जड़ी हुई पट्टी या बन्द ।
 पटकान—(हिं. स्त्री.) देखें 'पटकनिया' ।
 पटकार—(सं. पुं.) कपड़ा बुननेवाला, जुलाहा, चित्रकार ।
 पटकुटी—(सं. स्त्री.) कपड़े का घर, तंबू ।
 पटचचर—(सं. पुं.) पुराना कपड़ा, चोर ।
 पटझोल—(हिं. पुं.) अंचल ।
 पटड़ी—(हिं. स्त्री.) देखें 'पटरी' ।
 पटतर—(हिं. पुं.) तुल्यता, समानता, समता, सादृश्य, उपमा ।
 पटतरना—(हिं. क्रि. स.) बराबर ठहराना, उपमा देना ।
 पटतारना—(हिं. क्रि. स.) असमतल भूमि को चौरस या समतल करना, माला आदि शस्त्र किसी के ऊपर चलाने के लिये धामना या तानना ।
 पटताल—(हिं. पुं.) मृदंग का एक ताल ।
 पटद—(सं. पुं.) कर्पास, कपास, रुई ।
 पटवारी—(हिं. वि.) जो वस्त्र पहिने हो; (पुं.) कोष का अधिकारी ।
 पटना—(हिं. क्रि. अ.) समतल या चौरस होना, पक्की या कच्ची छत बनना, खेत आदि का सींचा जाना, किसी वस्तु से किसी स्थान का परिपूर्ण होना, घर का दूसरा खण्ड बनाया जाना, दो मनुष्यों के विचार में समानता होना, मन मिलना, लेन-देन, खरीद-विक्री आदि में मल्य आदि का स्थिर होना, गाढ़ी मैत्री होना, ऋण का चुकता हो जाना ।
 पटना—(पुं.) विहार प्रान्त की राजधानी, इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था ।
 पटनिया (हा)—(हिं. वि.) पटना नगर में बना

हुआ, पटना नगर से संबंध रखनेवाला ।
पटनी-(हि. स्त्री.) कोठे के नीचे का घर, स्थायी पट्टे पर मिली हुई भूमि, वस्तुएँ रखने के लिये दो खूंटियों पर दीवार की ऊँचाई पर रखी हुई पटरी ।
पटपट-(हि. स्त्री.) किसी हलकी वस्तु के आघात आदि से उत्पन्न निरन्तर शब्द; (अव्य.) पट-पट शब्द करता हुआ ।
पटपटाना-((हि. क्रि.अ.,सं.) भूख-प्यास अथवा सरदी-गर्मी के कारण अधिक कष्ट सहना, तड़पना, किसी वस्तु से पट-पट शब्द निकलना, किसी वस्तु को पीटकर पट-पट शब्द उत्पन्न करना, पछताना, शोक या दुःख करना ।
पटपर-(हि.वि.) समतल, चौरस; (पुं.) नदी के आस-पास की वह भूमि जो वर्षाकाल में प्रायः डूबी रहती है और जिसमें केवल रबी की उपज होती है, ऐसा स्थान जहाँ वनस्पति न उपजे, उजाड़ स्थान ।
पटबंधक-(हि. पुं.) एक प्रकार का बंधक जिसमें महाजन बंधक रखी हुई सम्पत्ति की वार्षिक आय से सूदकाट लेने के धाद जो बढ़ती होती है उसको मूल ऋण में काटता जाता है और संपूर्ण ऋण चुकता हो जाने पर वह सम्पत्ति उसके मालिक को लौटा देता है ।
पटवास-(हि.पुं.) वस्त्र को सुगन्धित करने का द्रव्य ।
पटवीजना-(हि. पुं.) खद्योत, जुगनु ।
पटमंजरी-(सं. स्त्री.) सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी का नाम ।
पटमंडप-(सं.पुं.) तंबू, कपड़े का बना घर ।
पटम-(हि. वि.) वह जो भूख के मारे अन्धा हो रहा हो ।
पटमय-(सं. पुं.) तम्बू, लहंगा ।
पटरा-(हि. पुं.) लकड़ी का लंबा चौरस पल्ला, पाटा, घोवी का पाट, हेंगा; (मुहा.)-कर देना-मार-काटकर भूमि पर लेटा देना ।
पटरानी-(हि.स्त्री.) किसी राजा की सबसे बड़ी या मुख्य रानी जिसको राजा के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार हो ।
पटरी-(हि. स्त्री.) काठ का छोटा पतला पटरा, लिखने की पटिया, नरिया धपुआ, आपसी मेल, सड़क के दोनों किनारों पर मनुष्यों के चलने के लिये बना हुआ ऊँचा मार्ग, बागीचों में बगारियों के चारों ओर चलने का मार्ग, जन्तर, हाथ में पहिनने की एक प्रकार की

चूड़ी, नहर के दोनों ओर के मार्ग, कपड़े के किनारों पर टाँकने की कलावत्तु की पट्टी, रेल की लाइन ।
पटल-(सं.पुं.) छान-छप्पर, लाव-लश्कर, मोतियाविद नामक आँख का रोग, तिलक, टीका, पुस्तक का एक भाग, परिच्छेद, समूह, ढेर, आँख का परदा, लकड़ी का चौरस टुकड़ा, पटरा, आवरण, परत, तह, श्रय, वृक्ष, परवल या उसकी लता, करौंदे का वृक्ष ।
पटलक-(सं.पुं.) राशि, समूह, ढेर, आवरण, परदा, झिलमिली, बुरका, छोटा संदूक ।
पटलता-(सं. स्त्री.) अधिकता ।
पटली-(सं. स्त्री.) पंक्ति ।
पटवा-(हि. पुं.) वह जो रेशमी सूत में गहनों को रूँथता है, पटहार, पटसन, पाट, नारंगी रंग का वेल ।
पटवाद्य-(सं.पुं.) झाँझ की तरह का एक प्राचीन वाजा ।
पटवाना-(हि. क्रि. स.) पाटने का काम दूसरे से कराना, ढँपवाना, छत तैयार कराना, गड्ढे को मिट्टी आदि से भरवाना, पानी से सिंचवाना, दाम चुका देना, शान्त करना, सौदा तै कर देना ।
पटवाप-(सं. पुं.) तंबू ।
पटवारगिरी-(हि.स्त्री.) पटवारी का काम या पद ।
पटवारी-(हि. पुं.) वह कर्मचारी जो गाँव की भूमि, उसके कर आदि का हिसाब-किताब रखता है; (स्त्री.) कपड़ा पहिनानेवाली लौड़ी ।
पटवास-(सं. पुं.) पट-मंडप, शिविर, तंबू, साड़ी, लहंगा, वस्त्र को सुगन्धित करने का द्रव्य ।
पटवेश्म-(सं. पुं.) शिविर, तम्बू ।
पटसन-(हि.पुं.) एक प्रसिद्ध पौधा जिसके रेशों से रस्सी, बोरे, टाट आदि बनाये जाते हैं, पाट, जूट ।
पटहंसिका-(सं. स्त्री.) सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी ।
पटह-(हि.पुं.) दूँडुची, नगाड़ा, बड़ा ढोल ।
पटहता-(सं. स्त्री.) नगाड़े की ध्वनि ।
पटहा-(हि. पुं.) देखें 'पटह' ।
पटहार-(हि. पुं.) वह जो रेशम के डोरे बनाता हो, रेशम के डोरे में गहना रूँथनेवाला पटवा ।
पटा-(हि.पुं.) एक प्रकार की लोहे की पट्टी जो किच के आकार की होती है जिससे लोग तलवार के धार की काट और बनाव सींगते हैं, चौड़ी तथा लंबी धारी, गोदा,

लेन-देन, लगाम की मुहरी, अधिकार-पत्र, पटरा ।
पटाई-(हि. स्त्री.) पटाने की क्रिया या भाव, सिंचाई, सिंचाई का वेतन, पाटने की क्रिया ।
पटाक-(हि. पुं.) किसी छोटी वस्तु के गिरने आदि का शब्द ।
पटाका-(हि. पुं.) पट या पटाक शब्द, एक प्रकार की अग्निक्तीड़ा जिसके छूटने पर पटाक शब्द निकलता है, कोड़ आदि का शब्द, थप्पड़, तमाचा ।
पटाखा-(हि. पुं.) देखें 'पटाका' ।
पटाना-(हि. क्रि. स.) पाटन का काम कराना, गड्ढे को पाटकर भूमि को समतल करना, छत को पीटकर बराबर करना, सौदा तै करना, ऋण चुका देना; (क्रि. अ.) चुप या शांत होना ।
पटापट-(हि. अव्य.) निरन्तर पट-पट शब्द करते हुए; (स्त्री.) निरन्तर पट-पट शब्द ।
पटापटी-(हि. स्त्री.) वह वस्तु जो रंग-विरंगी हो ।
पटार-(हि. स्त्री.) पिंजड़ा, पेटी, पिटारों, रेशम की डोरी ।
पटालुफा-(सं. स्त्री.) जलीका, जोंक ।
पटाव-(हि. पुं.) पाटने की क्रिया, पाटने का भाव, पटा हुआ स्थान, भीतों से सटाकर बनाया हुआ उँचा स्थान, छत की पाटन, लकड़ी का वह पुष्ट पटरा जिसको द्वार के ऊपर रखकर उसपर भीत उठाई जाती है, भरेठ ।
पटिका-(सं. स्त्री.) यवनिका, परदा ।
पटिया-(हि.स्त्री.) पत्यर का लंबा चौरस टुकड़ा, काठ का छोटा पटरा, त्राट या पलंग की पाटी, हेंगा, माँग, पट्टी, कम्बल या टाट की पट्टी, लिखने की पटरी, सँकरा लंबा दैत ।
पटी-(सं. स्त्री.) कपड़े का पतला लंबा टुकड़ा, परदा, नाटक का परदा, पटका ।
पटीमा-(हि. पुं.) छीपियों का वह पटरा जिस पर वे कपड़े को फैला कर उसे छापते हैं ।
पटौर-(सं. पुं.) ऊँचाई, भेष, वादल, वंगलोचन, मूंगी, चन्दन, रीर, लक्ष्म, उदर, पेट, बरगद का वृक्ष, नलनी ।
पटीलना-(हि.क्रि.सं.) किसी को मूलधे की बातें कहकर अपने अनुकूल करना या दया पर लाना, नीचा दिखाना, पगाना, प्रायश्चर्य करना, मारना, पीटना, पूर्ण करना, सफलतापूर्वक कोई काम समाप्त करना,

ठगना, छलना ।

पट्ट- (सं. वि.) दक्ष, चतुर, रोगरहित, स्वस्थ, तीक्ष्ण, मनोहर, प्रकाशित, कठोर हृदय का, उग्र, धूर्त; (पुं.) नमक, परवल, करेला, जीरा, वच, नकछिकनी, चीनी, कपूर ।

पट्टा- (हि. पुं.) पटसन, करेमू ।

पट्टक- (सं. पुं.) पटोल, परवल ।

पट्टका- (हि. पुं.) कन्वे परका वस्त्र, कन्हावर, चादर, धारीदार वस्त्र ।

पट्टता- (सं. स्त्री.) दक्षता, चतुराई, प्रवीणता ।

पट्टत्व- (सं. पुं.) पट्टता, दक्षता ।

पट्टपत्रिका- (सं. स्त्री.) पिण्डखजूर ।

पट्टपर्णी- (सं. स्त्री.) सत्यानासी, कटेरी ।

पट्टरूप- (सं. वि.) बहुत चतुर या दक्ष ।

पट्टली- (हि. स्त्री.) झूले के रस्सों पर रखने की काठ की पट्टरी, गाड़ी या छकड़े में जड़ा हुआ काठ का पट्टरा, चौकी, पीड़ा ।

पट्टवा- (हि. पुं.) पटसन, जूट, करेमू का शाक ।

पट्टका- (हि. पुं.) देखें 'पट्टका' ।

पट्टवाज- (हि. पुं.) वह जो पटा खेलता हो, पटे से लड़नेवाला, एक प्रकार का खिलाता, व्यभिचारी और धूर्त मनुष्य; (स्त्री.) कुलटा, धूर्त स्त्री ।

पट्टेर- (हि. स्त्री.) सरकंडे की जाति का एक पौधा जो जल में होता है ।

पट्टेरक- (सं. पुं.) मुस्तक, मोथा ।

पट्टेरा- (हि. पुं.) देखें 'पट्टेला' ।

पट्टेल- (हि. पुं.) गाँव का मुखिया या चौधरी, गुजरातियों की एक उपाधि ।

पट्टेलना- (हि. क्रि. स.) देखें 'पट्टेलना' ।

पट्टेला- (हि. पुं.) वह नाव जिसका विचला भाग पटा हुआ हो, एक प्रकार की घास जिसकी चटाइयाँ बनती हैं, सिल, हेंगा, पट्टिया, मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।

पट्टेली- (हि. स्त्री.) छोटा पट्टेला ।

पट्टैत- (हि. पुं.) पटा खेलनेवाला, पट्टेवाज ।

पट्टैला- (हि. पुं.) किवाड़ बन्द करने के लिये लगा हुआ चिपटा डंडा, व्योड़ा ।

पट्टेर- (हि. पुं.) पटोल, रेशमी कपड़ा ।

पट्टेरी- (हि. स्त्री.) रेशमी साड़ी या चादर ।

पट्टोल- (सं. पुं.) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा, परवल ।

पट्टोलक- (सं. पुं.) शुकित, सीपी, सुतुही ।

पट्टोलिका- (सं. स्त्री.) एक प्रकार की तरौई ।

पट्टौनी- (हि. पुं.) नाविक, मल्लाह, माँझी ।

पट्टौहां- (हि. पुं.) वह कमरा जो पाटन के नीचे दूसरा कमरा हो, पटबंधक ।

पट्ट- (सं. पुं.) नगर, पहिया, धाव पर बाँधने की पट्टी, पट्टा, डुपट्टा, ढाल, राजसिंहासन,

पीड़ा, पाटा, शिला, पगड़ी, रेशम, लाल रेशमी पगड़ी, चौराहा; (वि.) प्रधान ।

पट्टक- (सं. पुं.) लिखने की पट्टिया, चित्रपट, ताम्रपट जिस पर राजा का आदेश खोदा जाता था, पट्टा ।

पट्टदेवी- (हि. स्त्री.) राजा की प्रधान रानी, पटरानी ।

पट्टदोल- (सं. स्त्री.) कपड़े का बना हुआ झूला ।

पट्टन- (सं. पुं.) पत्तन, बड़ा नगर ।

पट्टमहिषी- (सं. स्त्री.) राजा की प्रधान रानी, पटरानी ।

पट्टरंग- (सं. पुं.) पतंग, बक्कम ।

पट्टराज्ञी- (सं. स्त्री.) पटरानी ।

पट्टा- (हि. पुं.) किसी भूमि अथवा स्थावर सम्पत्ति के उपयोग का अधिकारपत्र जो स्वामी की ओर से असामी, ठीकेदार या किरायेदार को लिखा जाता है, कोई अधिकारपत्र, एक आमपण जिसको स्त्रियाँ चूड़ियों के बीच में पहिनती हैं, पीड़ा, चपरास, पुरुष के सिर पर के बाल की काट जो पीछे की ओर बराबर होती है, कामदार जूतियों पर का कपड़ा जिस पर बेल-बूटा बना होता है, एक प्रकार की तलवार, विवाह के समय का वह नेग जो नाई, वारी, घोड़ी आदि को बर-पक्ष से दिलवाया जाता है, चमड़े का कटिबन्ध, घोड़े के माथे पर पहिनाने का गहना, कुत्ता, बिल्ली आदि के गले में बाँधने की पट्टी ।

पट्टिका- (सं. स्त्री.) पठानी लोघ, एक वित्ता लंबा कपड़ा, चित्र-पट, छोटी पट्टरी ।

पट्टिकार- (सं. वि.) रेशमी कपड़ा बुननेवाला ।

पट्टिज्ञ- (सं. पुं.) तलवार-जैसा एक अस्त्र ।

पट्टी- (सं. स्त्री.) पठानी लोघ, एक गहना जो पगड़ी में लगाया जाता है, तसमा, घोड़े के सीने में बाँधने की रस्ती, घोड़े की सीधी दौड़, सरपट चाल, जमींदारी का वह भाग जो एक पट्टीदार के आधिकार में होता था, छत या छाजन में लगाने का बल्ला, कपड़े का किनारा, नाव के बीच में लगाने का पट्टरा, टाट बनाने की सन की घञ्जी, तिल या चने की दाल पाग कर बनाई हुई एक प्रकार की मिठाई, सूती या ऊनी वस्त्र की घञ्जी, पंक्ति, पट्टिया, लिखने की काठ की पट्टरी, खाट में लंबे बल लगी हुई लकड़ी, धातु, कागज या कपड़े की घञ्जी, धाव पर बाँधने की कपड़े की घञ्जी, वहकाने-

वाली शिक्षा, मुलाना, सिखावन, पाठ, माँग के दोनों ओर सँवारे हुए बाल, विभाग ।

पट्टीदार- (हि. पुं.) वह व्यक्ति जिसका किसी सम्पत्ति में अंश हो, बराबर अंश का अधिकारी, संयुक्त सम्पत्ति या जमींदारी के अंश का स्वामी, वह जिसको अंश पाने का अधिकार हो ।

पट्टीदारी- (हि. स्त्री.) पट्टीदार होने का भाव, भू-संपत्ति के अंश-विभाग, माईचारा, वह भू-सम्पत्ति जिसमें अनेक भागी हों ।

पट्टीवार- (हि. अव्य.) हर पट्टी का हिसाब-किताब अलग-अलग रखते हुए; (वि.) अलग-अलग पट्टियों के अनुसार तैयार किया हुआ ।

पट्टीश- (सं. पुं.) शिव, महादेव ।

पट्टू- (हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा ऊनी वस्त्र जो बहुत गरम होता है, शुक, तोता ।

पट्टू-पछाड़- (हि. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।

पट्टू-बैठक- (हि. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।

पट्टैत- (हि. पुं.) पट्टैत, मूर्ख, एक प्रकार का कवूतर ।

पट्टेपाध्याय- (सं. पुं.) दानपत्र का लिपिक या लिखनेवाला ।

पट्टंभान- (हि. वि.) पढ़ने योग्य ।

पट्टठा- (हि. पुं.) तरुण, नवयुवक, वह किशोर जिसमें यौवन का आगमन हो चुका हो, जवान लड़का, स्नायु, मोटबल का पत्ता, एक प्रकार का चौड़ा गोटा, बेल बनाई हुई गोटा, जाँघ और कतिका जोड़, मोटी नस; (मुहा.)-चढ़ना-नस पर नस चढ़ जाना; -पछाड़- (वि. स्त्री.) हृष्ट-पुष्ट (स्त्री) ।

पट्टठी- (हि. स्त्री.) देखें 'पठिया'; (वि. स्त्री.) पट्टा ।

पठक- (सं. पुं.) पाठक, पढ़नेवाला ।

पठन- (सं. पुं.) अध्ययन, पढ़ना ।

पठनीय- (सं. वि.) पढ़ने योग्य ।

पठनेटा- (हि. पुं.) पठान का पुत्र ।

पठमंजरी- (सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।

पठवना- (हि. क्रि. स.) भेजना ।

पठवाना- (हि. क्रि. स.) भेजवाना, दूसरे से भेजने का काम कराना ।

पठान- (हि. पुं.) भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तों में रहनेवाली इसलाम धर्म माननेवाली एक जाति ।

पठाना- (हि. क्रि. स.) भेजना, पठवाना ।

पठानिन, पठानी- (हि. स्त्री.) पठान की स्त्री ।

पठानी लोघ- (हि. पुं.) एक जंगली वृक्ष जिसकी लकड़ी और फल औषधों में प्रयुक्त होते हैं तथा छिलका रंग बनाने के काम में आता है ।

पठावन- (हि. पुं.) सन्देश ले जानेवाला दूत ।

पट्टीदार- (हि. पुं.) वह व्यक्ति जिसका किसी सम्पत्ति में अंश हो, बराबर अंश का अधिकारी, संयुक्त सम्पत्ति या जमींदारी के अंश का स्वामी, वह जिसको अंश पाने का अधिकार हो ।

पट्टीदारी- (हि. स्त्री.) पट्टीदार होने का भाव, भू-संपत्ति के अंश-विभाग, माईचारा, वह भू-सम्पत्ति जिसमें अनेक भागी हों ।

पट्टीवार- (हि. अव्य.) हर पट्टी का हिसाब-किताब अलग-अलग रखते हुए; (वि.) अलग-अलग पट्टियों के अनुसार तैयार किया हुआ ।

पट्टीश- (सं. पुं.) शिव, महादेव ।

पट्टू- (हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा ऊनी वस्त्र जो बहुत गरम होता है, शुक, तोता ।

पट्टू-पछाड़- (हि. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।

पट्टू-बैठक- (हि. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।

पट्टैत- (हि. पुं.) पट्टैत, मूर्ख, एक प्रकार का कवूतर ।

पट्टेपाध्याय- (सं. पुं.) दानपत्र का लिपिक या लिखनेवाला ।

पट्टंभान- (हि. वि.) पढ़ने योग्य ।

पट्टठा- (हि. पुं.) तरुण, नवयुवक, वह किशोर जिसमें यौवन का आगमन हो चुका हो, जवान लड़का, स्नायु, मोटबल का पत्ता, एक प्रकार का चौड़ा गोटा, बेल बनाई हुई गोटा, जाँघ और कतिका जोड़, मोटी नस; (मुहा.)-चढ़ना-नस पर नस चढ़ जाना; -पछाड़- (वि. स्त्री.) हृष्ट-पुष्ट (स्त्री) ।

पट्टठी- (हि. स्त्री.) देखें 'पठिया'; (वि. स्त्री.) पट्टा ।

पठक- (सं. पुं.) पाठक, पढ़नेवाला ।

पठन- (सं. पुं.) अध्ययन, पढ़ना ।

पठनीय- (सं. वि.) पढ़ने योग्य ।

पठनेटा- (हि. पुं.) पठान का पुत्र ।

पठमंजरी- (सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।

पठवना- (हि. क्रि. स.) भेजना ।

पठवाना- (हि. क्रि. स.) भेजवाना, दूसरे से भेजने का काम कराना ।

पठान- (हि. पुं.) भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तों में रहनेवाली इसलाम धर्म माननेवाली एक जाति ।

पठाना- (हि. क्रि. स.) भेजना, पठवाना ।

पठानिन, पठानी- (हि. स्त्री.) पठान की स्त्री ।

पठानी लोघ- (हि. पुं.) एक जंगली वृक्ष जिसकी लकड़ी और फल औषधों में प्रयुक्त होते हैं तथा छिलका रंग बनाने के काम में आता है ।

पठावन- (हि. पुं.) सन्देश ले जानेवाला दूत ।

पठावनि, पठावनी—(हिं. स्त्री.) किसी मनुष्य को कहीं कोई वस्तु लेकर अथवा सन्देश पहुँचाने के लिये भेजना, यह कार्य, इसका वेतन ।

पठावर—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की घास ।

पठित—(सं. वि.) पढ़ा हुआ, शिक्षित, पढ़ा-लिखा ।

पठितव्य—(सं. वि.) पढ़ने योग्य ।

पठिति—(सं. स्त्री.) शब्दालंकार का एक भेद ।

पठियर—(हिं. स्त्री.) वह बल्ला या पटिया जो कुएँ के बार-बार बीचोबीच रखी जाती है ।

पठिया—(हिं. स्त्री.) जवान या युवती स्त्री, हृष्ट-पुष्ट स्त्री ।

पठौर—(हिं. स्त्री.) विना ब्याई हुई जवान बकरी ।

पठौना—(हिं. क्रि. स.) भेजना ।

पठौनी—(हिं. स्त्री.) किसी को कुछ देकर कहीं भेजने की क्रिया, पठावनि ।

पठ्पमान—(सं. वि.) जो पढ़ने योग्य हो ।

पड़छली—(हिं. स्त्री.) लकड़ी की पाटन, टाँड़, कच्ची मीत की रक्षा के लिये लगाया जानेवाला छप्पर ।

पड़त (हिं. स्त्री.), पड़ता—(हिं. पुं.) वह मूल्य जो किसी वस्तु को तैयार करने या मूल लेने में लगा हो, सामान्य दर, लागत, लगान की दर; (मुहा.)—खाना—लागत के ऊपर लाम मिल जाना; —फैलाना—लाम रखते हुए किसी वस्तु का दाम स्थिर करना ।

पड़ताल—(हिं. स्त्री.) अनुसन्धान, छान-बीन, समय-समय पर पटवारी द्वारा खेतों की उपज आदि विषयों की जाँच ।

पड़तालना—(हिं. क्रि. स.) अनुसन्धान करना, छानबीन करना ।

पड़ती—(हिं. स्त्री.) वह भूमि जो कुछ वर्षों से जोती-बोई न गई हो;—जमीन—वह भूमि जो जोती-बोई न गई हो या जाती हो ।

पड़ना—(हिं. क्रि. अ.) पतित होना, गिरना, विछाया जाना, अधिक इच्छा होना, धुन लगना, रखा रहना, मैसुन करना, उत्पन्न होना, उपस्थित होना, संयोगवश आ पड़ना, जाँच करने पर ठीक ठहरना, रोगी होना, पड़ता खाना, संकट या कठिनाई आना, हस्तक्षेप करना, विश्राम करने के लिये लेटना, डेरा ठालना, ठहरना, मार्ग में मिलना, आर, प्राणि आदि में दबत होना, ऊँचे स्थान से नीचे को आना, पाना

जाना; (मुहा.) किसी पर पड़ना—आपत्ति आना; पड़ा होना—एक ही स्थान पर बने रहना; पड़े रहना—विना कुछ काम किये खाट पर लेट रहना; (किसीको) क्या पड़ी है?—तुमसे क्या मतलब ।

पड़पड़—(हिं. स्त्री.) निरन्तर पड़-पड़ाने का शब्द ।

पड़पड़ाना—(हिं. क्रि. अ.) पड़-पड़ शब्द होना, मिर्च आदि खाने या रगड़ने से जलन होना, परपराना ।

पड़पड़ाहट—(हिं. स्त्री.) पड़पड़ाने की क्रिया या भाव, परपराहट ।

पड़पोता—(हिं. पुं.) प्रपौत्र, पोते का पुत्र ।

पड़म—(हिं. पुं.) एक प्रकार का मोटा सूती कपड़ा जो खेमा आदि बनाने के काम में आता है ।

पड़वा—(हिं. स्त्री.) प्रत्येक पक्ष की पहिली तिथि; (पुं.) भैंस का बच्चा, पँड़वा ।

पड़वाना—(हिं. क्रि. स.) गिरवाना ।

पड़वी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की ऊँच जो वैशाख या जेठ में बोई जाती है ।

पड़ा—(हिं. पुं.) भैंस का बच्चा, पँड़वा ।

पड़ाइन—(हिं. स्त्री.) देखें पँड़ाइन ।

पड़ाका—(हिं. पुं.) देखें 'पटाका' ।

पड़ाना—(हिं. क्रि. स.) झुकाना, गिराना ।

पड़ापड़—(हिं. स्त्री.) देखें 'पड़पड़' ।

पड़ाव—(हिं. पुं.) यात्रा के बीच का ठहराव, वह स्थान जहाँ यात्री ठहरते हैं, चट्टी, टिकान ।

पड़िया—(हिं. स्त्री.) भैंस का मादा बच्चा ।

पड़ियाना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'नैसाना' ।

पड़िया—(हिं. स्त्री.) प्रत्येक पक्ष की पहिली तिथि, प्रतिपदा ।

पड़ोस—(हिं. पुं.) किसी घर के समीप का घर, घर के आसपास का या समीपवर्ती स्थान; (क्रि. प्र.)—करना—पड़ोस में बसना ।

पड़ोसी, पड़ोसी—(हिं. पुं.) प्रतिवासी, पड़ोस में रहनेवाला ।

पड़त—(हिं. स्त्री.) पढ़ने की क्रिया या भाव, मन्त्र, जादू ।

पड़ना—(हिं. क्रि. स.) किसी पुस्तक, लेख आदि को उस प्रकार देखना कि उसमें लिखी हुई बात का ज्ञान हो जाय, उच्चारण करना, याँचना, धीरे से कहना, नया शक सीखना, स्मरण करने के लिये धारदार उच्चारण करना, मन्त्र पढ़ना, जादू करना, अध्ययन करना, शिक्षा प्राप्त करना, पालनू ताँता, मैना आदि का मनुष्यों द्वारा मित्तकथने रूप शक्यों का उच्चारण करना;—गिरना—(वि. स.)

शिक्षा प्राप्त करना ।

पड़नी—(हिं. पुं.) एक प्रकार का धान ।

पड़नी-उड़ी—(हिं. स्त्री.) उछलकर लाँघने का एक व्यायाम ।

पड़वाना—(हिं. क्रि. स.) किसी से पढ़ने का काम कराना, बँचवाना, किसी के द्वारा शिक्षा दिलाना ।

पड़वैया—(हिं. पुं.) शिक्षार्थी, पढ़नेवाला ।

पड़ाई—(हिं. स्त्री.) विद्याभ्यास, पठन, अध्ययन, पढ़ने का काम, पाठन, पढ़ाने का काम, पढ़ने का ढंग, पढ़ाने के लिए या बदले में दिया जानेवाला धन, अध्ययन या अध्यापन की शैली ।

पड़ाना—(हिं. क्रि. स.) अध्यापन करना, शिक्षा देना, सिखाना, पड़वाना, कोई कला सिखलाना, ताँता, मैना आदि पक्षियों को बोलना सिखलाना ।

पड़िना—(हिं. पुं.) मोठे तथा खारे पानी में रहनेवाली एक प्रकार की मछली, पहिना ।

पड़िया—(हिं. पुं.) पाठक, पढ़नेवाला ।

पण—(सं. पुं.) ताँवे का टुकड़ा जिसका व्यवहार प्राचीन काल में सिक्के के रूप में किया जाता था, वेतन, स्तुति, प्रशंसा, प्राचीन काल की एक माप जो एक नुदुठी अन्न के बराबर होती थी, घर, विष्णु, विन्की करनेवाला, दूत, जुआ, मूल्य, दाम, धन, सम्पत्ति, प्रतिज्ञा, बाजी की वस्तु जिसका देना स्वीकार हो, व्यापार, व्यवहार, क्रय-विक्रय की वस्तु, कोई कार्य जिसमें बाजी लगाई गई हो ।

पण-ग्रंथि—(सं. पुं.) हाट ।

पणन—(सं. पुं.) बँचन की क्रिया या भाव, व्यापार करने की क्रिया ।

पणनीय—(सं. वि.) मरीदने या बेचने योग्य, पण्य ।

पणफर—(सं. पुं.) ज्योतिष में जन्म-कुण्डली का दूसरा, पाँचवाँ, आठवाँ और न्यारहवाँ घर ।

पणबंध—(सं. पुं.) बाजी या गतं लगाना ।

पणव—(सं. पुं.) छोटा नगाड़ा, छोटा ढोल, एक वर्षवृत्त का नाम ।

पणश—(सं. पुं.) कटहल ।

पणस—(सं. पुं.) विद्ये की वस्तु ।

पणसुंदरी, पणसुत्री, पणांगना—(सं. स्त्री.) धेया, रंठी ।

पणापित—(सं. वि.) स्तुति निमित्त हुआ, मोक्ष निमित्त हुआ ।

पणि—(सं. स्त्री.) हाट ।

पणित—(सं. वि.) जिसमें लगी पणों का गतं हो, मोक्ष निमित्त हुआ ।

पणितव्य—(सं. वि.) बाजी लगाने योग्य, व्यापार करने योग्य ।
 पण्य—(सं. वि.) मोल लेने या बेचने योग्य, व्यवहार करने योग्य, बाजी लगाने योग्य; (पुं.) व्यापार, माल;—जीवी—(पुं.) बनिया, सौदागर;—दास्ती—(स्त्री.) लौंडी, दासी, बाँदी;—पत्ति—(पुं.) बहुत बड़ा साहूकार, नगर-सेठ;—फूल—(पुं.) व्यापार में लाभ;—भूमि—(स्त्री.) माल रखने या जमा करने का स्थान, कोठी, भोदाम;—विलासिनी—(स्त्री.) वेश्या, रंडी;—वीथिका—(स्त्री.) हाट;—शाला—(स्त्री.) दुकान ।
 पण्यगाना—(सं. स्त्री.) रंडी ।
 पतंखा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बगला ।
 पतंग—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बृक्ष, बककम; (स्त्री.) तागे के सहारे हवा में ऊपर उड़नेवाला एक खिलौना जो बाँस की तीलियों के ढाँचे पर कागज चिपकाकर बनाया जाता है, कनकैया, गुडडी;—वाज—(पुं.) पतंग उड़ानेवाला, पतंग उड़ाने का व्यवसायी;—बाजी—(स्त्री.) पतंग उड़ाने की कला, क्रिया आदि ।
 पतंग—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, सूर्य, फर्तिगा, टिड्डी, एक प्रकार का धान, चिनगारी, एक गन्धर्व का नाम, जल, महुआ, शरीर, नाव, एक पर्वत का नाम, पारा, एक प्रकार का चन्दन, वाण, अग्नि, घोड़ा, पिशाच, मक्खी, कृष्ण का एक नाम, प्रजापति के एक पुत्र का नाम ।
 पतंगम—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, शलम, टिड्डी ।
 पतंगा—(हिं. पुं.) फर्तिगा, एक प्रकार का उड़नेवाला कीड़ा, स्फूर्लिंग, चिनगारी, दीपक की वत्ती का वह अंश जो जलकर गिर पड़ता है ।
 पतंगिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की मधुमक्खी ।
 पतंगी—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया ।
 पतंगेद्र—(सं. पुं.) गरुड़ ।
 पतंजिका—(सं. स्त्री.) घनुप की डोरी, चिल्ला ।
 पतंजलि—(सं. पुं.) योगशास्त्र के प्रणेता, पाणिनीय महामाष्य के प्रणेता ।
 पत—(हिं. स्त्री.) लज्जा, प्रतिष्ठा; (पुं.) पति, स्वामी; (मुहा.)—उत्तारना—अपमान करना;—रखना—प्रतिष्ठा बचाना ।
 पतई—(हिं. स्त्री.) पत्र, पत्ती ।
 पतखोवन—(हिं. पुं.) ऐसा कार्य करनेवाला जिससे अपना या दूसरे का अपमान हो ।

पतझड़, पतझर, पतझा (ड़) र—(हिं. स्त्री.) वह ऋतु जिसमें वृक्षों की पत्तियाँ झड़ जाती हैं, माघ और फागुन का महीना, अवनतिकाल, नाश का समय ।
 पतप्रकर्ष—(सं. पुं.) काव्य में एक प्रकार का रस-दोष ।
 पतत्र—(सं. पुं.) पक्ष, पंख, डैना, वाहन, सवारी ।
 पतत्रि—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया ।
 पतत्रिकेतन—(सं. पुं.) गरुड़ध्वज, त्रिष्णु ।
 पतत्रिराज—(सं. पुं.) पक्षिराज, गरुड़ ।
 पतत्री—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया ।
 पतद्भीरु—(सं. पुं.) श्येन पक्षी, बाज ।
 पतन—(सं. पुं.) गिरने या नीचे आने का भाव, गिरना, नीचे धंसने की क्रिया, अवनति, अधोगति, नाश, मृत्यु, पाप, जातिच्युति, उड़ान, किसी नक्षत्र का अक्षांश;—शील—(वि.) गिरता हुआ, नाश होनेवाला, जिसका पतन निश्चित हो, गिरनेवाला ।
 पतना—(हिं. क्रि. अ.) गिरना ।
 पतनारा—(हिं. पुं.) परनाला, मोरी ।
 पतनीय—(सं. वि.) पतित होनेवाला, गिरनेवाला; (पुं.) पतित करनेवाला पाप ।
 पतनोन्मुख—(सं. वि.) जिसका पतन, अधोगति या विनाश समीप हो, जो गिरने वाला हो ।
 पतयानी—(हिं. पुं.) प्रतिष्ठा, मान, लाज ।
 पतम—(सं. पुं.) चन्द्रमा, पक्षी, चिड़िया, फर्तिगा ।
 पतयालु, पतयिष्णु—(सं. वि.) देखें 'पतन-शील' ।
 पतर—(हिं. वि.) पतला, कृश; (पुं.) पत्तल, पत्ता ।
 पतरा—(हिं. पुं.) पत्तल, सरसों का पत्ता; (वि.) पतला ।
 पतराई—(हिं. स्त्री.) पतलापन ।
 पतरी—(हिं. स्त्री.) पत्तल ।
 पतरु—(सं. वि.) पतनशील, गिरनेवाला ।
 पतला—(हिं. वि.) कृश, जो मोटा न हो, जिसका दल मोटा न हो, झीना, हलका, अधिक तरल, अशक्त, असमर्थ, हीन; (मुहा.)—पड़ना—आपत्ति में पड़ना, दुर्दशाग्रस होना ।
 पतलाई—(हिं. स्त्री.),—पतलापन—(हिं. पुं.) पतला होने का भाव ।
 पतली—(हिं. वि. स्त्री.) देखें 'पतला' ।
 पतलून—(हिं. पुं.) अँगरेजों का पायजामा जिसमें नीवी नहीं लगाई जाती और जो बटन और पेटेटी से कमर में कसा जाता है ।

पतलो—(हिं. स्त्री.) सरकंडा, सरपत ।
 पतवर—(हिं. अव्य.) पंक्ति के क्रम से, पाँतों में ।
 पतवा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का मचान जिस पर बैठकर शिकार किया जाता है ।
 पतवार—(हिं. स्त्री.) नाव का वह अंग या पुरजा अंग जो इसके पीछे की ओर लगा होता है जिसके द्वारा नाव मोड़ी या घुमाई जाती है, कर्ण ।
 पतवारी—(हिं. स्त्री.) ऊख का खेत, पतवार ।
 पतवाल—(हिं. स्त्री.) देखें 'पतवार' ।
 पतस—(सं. पुं.) पक्षी ।
 पता—(हिं. पुं.) किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थान का ज्ञान करानेवाले व्योरे, परिचय आदि जिनके सहारे उसको पाया जा सके, अनुसन्धान, खोज, रहस्य; गूढ़ तत्त्व, जानकारी, चिट्ठी की पीठ पर लिखे हुए पते के शब्द;—ठिकाना—(पुं.) जिन बातों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के मिलने का स्थान जाना जा सके; पते की बात—भेद या तत्त्व की बात ।
 पताई—(हिं. स्त्री.) सूखकर झड़ी हुई पेड़-पौधों की पत्तियाँ ।
 पताका—(सं. स्त्री.) ध्वजा, झंडा, सौभाग्य, तीर चलाने में अँगुलियों की विशिष्ट स्थिति, दस खर्व की संख्या, पिंगल के अनुसार छन्द अथवा छन्दों में किसी लघु-गुरु वर्ण का स्थान जानने की रीति, वह झंडा जिसमें पताका पहिनाई जाती है, नाटक में वह स्थान जहाँ एक पात्र कोई बात सोच रहा हो और दूसरा पात्र आकर उसी विषय की कोई और बात कहे जिससे उक्त पात्र के चित्त-विषय की सूचना होती हो; (मुहा.)—उड़ना—एकाधिकार हो जाना, प्रसिद्धि होना, विजयी होना;—गिरना—हार जाना ।
 पताकिक, पताकी—(सं. पुं, वि.) पताका-युक्त, पताका उठानेवाला ।
 पताकिनो—(सं. स्त्री.) एक देवी का नाम, सेना ।
 पतार—(हिं. पुं.) देखें 'पाताल', वन, जंगल ।
 पतारी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का जल-पक्षी ।
 पताल—(हिं. पुं.) देखें 'पाताल';—आँवला—(पुं.) एक प्रकार का पौधा जो औषध में प्रयुक्त होता है;—कुम्हड़ा—(पुं.) एक प्रकार की जंगली वल जो शकरकन्द की लता की तरह भूमि पर फैलती है और इसकी गाँठों में

कन्द लगते हैं;—दंतो—(पुं.) वह हाथी जिसके दांत नीचे की झुके होते हैं।

पतावर—(हिं. पुं.) पेड़ के सूखे पत्ते।

पतासी—(हिं. स्त्री.) बड़बड़ों की छोटी खानी।

पतिगा—(हिं. पुं.) पतिगा।

पतिवरा—(सं. स्त्री.) स्वयंवरा।

पति—(सं. पुं.) मूल; गति, बूल्हा, स्त्री का विवाहित पुरुष, भर्ता, अविपति, स्वामी, मालिक, प्रभु, ईश्वर, प्रतिष्ठा, मर्यादा, लज्जा।

पतिआना—(हिं. क्रि.स.) विश्वास करना, मानना।

पतिआर—(हिं. पुं.) विश्वास।

पतिकामा—(सं. वि. स्त्री.) स्वामी को चाहनेवाली (स्त्री)।

पतिघातिनी—(सं. स्त्री.) पति को मारनेवाली स्त्री।

पतित—(सं. वि.) चलित, गया हुआ, गलित, गिरा हुआ, नीतिभ्रष्ट, आचार-च्युत, अपाचन, अघम, अति नीच, महा-पातकी, अधम;—उवारन—(पुं., वि.) पतित का उद्धार करनेवाला, ईश्वर, परमात्मा, ईश्वर का अवतार;—ता—(वि.) अधःपता, नीचता, अपवित्रता;—त्व—(पुं.) पतित होने का भाव;—पावन—(वि.) पापियों का उद्धार करनेवाला ईश्वर।

पतित्व—(सं. पुं.) स्वामित्व, स्वामी होने का भाव।

पतित्वन—(सं. पुं.) यौवन, जवानी।

पतिदेवता—(सं. स्त्री.) जिस स्त्री का आराध्य एक मात्र पति हो।

पतिदेवा—(सं. स्त्री.) पतिव्रता स्त्री।

पतिधर्म—(सं. पुं.) पति के प्रति स्त्री का धर्म।

पतिनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'पत्नी'।

पतिया—(हिं. स्त्री.) देखें 'पत्रिका'।

पतियाना—(हिं. क्रि.स.) विश्वास करना, सच मानना।

पतिलोक—(सं. पुं.) पतिव्रता स्त्री को मिलनेवाला वह स्वर्ग जिसमें उसका पति रहता है।

पतिवती—(हिं. वि.) सांभोगवती, सववा।

पतिवेदन—(सं. पुं.) पति प्राप्त करानेवाले निव।

पतिव्रत—(सं. पुं.) पति में निष्ठापूर्वक अनुराग।

पतिव्रता—(सं. वि. स्त्री.) अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखनेवाली तथा पति

की सेवा करनेवाली स्त्री, सती, साध्वी।

पतीजना, पतीनना—(हिं. क्रि.स.) विश्वास करना, पतिआना।

पतीर—(हिं. स्त्री.) पंक्ति, पांत।

पतीरी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की चटाई।

पतील—(हिं. वि.) पतला।

पतीली—(हिं. स्त्री.) चौड़े मुँह की बटलोई, देगची।

पतुरिया—(हिं. स्त्री.) बेश्या, रंडी, व्यभिचारिणी स्त्री, छिनाल औरत।

पतुली—(हिं. स्त्री.) कलाई में पहिने का एक गहना।

पतेर—(हिं. पुं.) पत्नी, चिड़िया, गर्त, गड्ढा।

पतोई—(हिं. स्त्री.) गुड़ बनाते समय खौलते रस में से निकलनेवाला फेन।

पतोखद—(हिं. स्त्री.) जड़ी-बूटी, औषधि, खरदिरई।

पतोखा—(हिं. पुं.) पत्ते का बना हुआ पात्र, दोना, एक प्रकार की छतरी।

पतोखी—(हिं. स्त्री.) पत्तों का बना हुआ एक छोटा छता, छतरी, एक पत्ते की बनी हुई दोनियाँ।

पतोह, पतोह—(हिं. स्त्री.) पुनवसू, बेटे की स्त्री।

पतोआ—(हिं. पुं.) पत्र, पत्ता।

पत्त—(सं. पुं.) पाद, पर, पाँव।

पत्तन—(सं. पुं.) नगर, मृदंग।

पत्तरंग—(सं. पुं.) लाल चन्दन, वक्कम।

पत्तर—(हिं. पुं.) किसी धातु को पीटकर तयार किया हुआ पतला टुकड़ा, धातु की चद्दर, देखें 'पतल'।

पत्तल—(हिं. स्त्री.) पत्तों को तीकों से जोड़कर बनाया हुआ पात्र जो धाली के काम में लाया जाता है, पत्तल में परोसी हुई भोजन-आमरी, परोसा; (मुहा०) एक पत्तल में खानेवाले—जिनमें परस्पर ज्ञान-मान और विवाह आदि का व्यवहार होता हो; जित पत्तल में खाना उसी में छेद करना—उपकार करनेवाले की हानि करना, कृतघ्नता दिखलाना।

पत्ता—(हिं. पुं.) पेड़-पौधे का दहनी से निकला हुआ हरे रंग का फेंका हुआ अवयव, पर्ण, पत्र, फाग में पहिने का एक प्रकार का गहना, धातु की चद्दर, पत्तर, मोटे कागज का चौकीर टुकड़ा; (वि.) बहुत हलका; (मुहा०)—उड़कना—आगला होना, उड़कना होना।

पत्ति—(सं. पुं.) पैदल सिपाही, वीर, योद्धा; (स्त्री.) गति, चाल, प्राचीन काल की सेना का सबसे छोटा भाग

जिसमें एक रथ, एक हाथी, तीन घोड़े और पाँच पैदल सिपाही होते थे।

पत्तिक—(सं. पुं.) पदाति, पैदल सिपाही, प्राचीन काल की सेना का वह विभाग जिसमें दस घोड़े, दस हाथी, दस रथ और दस पैदल सिपाही होते थे, ऐसे सेना-विभाग का अधिकारी; (वि.) पैदल चलनेवाला।

पत्ती—(हिं. स्त्री.) छोटा पत्ता, नाग, हिस्ता, फूल की पंखड़ी, या दल, पत्ती के आकार का लकड़ी, धातु आदि का छोटा पत्तर, पट्टी।

पत्तीदार—(हिं. पुं.) साजीदार, हिस्सेदार।

पत्त्र—(सं. पुं.) जल-पिप्पली, पाकड़ का वृक्ष, शमी का पेड़।

पत्य—(हिं. पुं.) देखें 'पत्य'।

पत्थर—(हिं. पुं.) पृथ्वीतल का कड़ा खण्ड या पिप्प, सड़क की नाप बतलानेवाला मृत्ति में गड़ा हुआ पत्थर, रत्न, बनीरी, ओला, बिलकुल नहीं, कुछ नहीं, पत्थर की तरह कठोर तथा नारी अयोग्य वस्तु; (मुहा०)—का कलेजा—करुणा तथा दया से रहित हृदय;—की छाती—कठोर हृदय;—की लकीर—सर्वदा बनी रहनेवाली वस्तु;—चटाना—पत्थर पर दिग्गकर घट्टन चोखा करना;—तले से हाथ निकलना—संकट से छुटकारा पाना;—तले हाथ दबना—ऐसे संकट में पड़ना जिससे छुटकारा कठिन हो;—पड़ना—नष्ट होना;—पर दूब जमना—असंभव घटना का होना;—पर सिर पटकना—असंभव बात के लिये उद्योग करना;—पतीजना—अत्यन्त कठोर हृदयवाले मनुष्य में दया उत्पन्न होना;—पानी—आँसू का समय, अंघट;—रत्ना—(पुं.) पुरानी चाल की बस्तु जिसमें वास्तव जलाने के लिये चकमक पत्थर लगा रहता था;—बटा—(पुं.) एक प्रकार की घास, एक प्रकार का सर्प जो पत्थर चटता है, एक-प्रकार की मछली जो समुद्र में चट्टानों में चिपटी रहती है; (वि.) लपट, संजुम, जो घर के बाहर न निकलता हो, सर्वदा घर में रहनेवाला;—पूर—(पुं.) एक प्रकार की घीसा;—दोड़—(पुं.) एक प्रकार की जलपति जो पत्थरों के संघ (द्वि.) में उलटती होती है;—खोज—(पुं.) पत्थर खोजने का उद्यम करनेवाला;—खोद—(पुं.) जो किसी की पत्थर खोजने में

हो; -बाजी-(स्त्री.) पत्यर फेंकने की क्रिया ।
 पत्यल-(हि.पुं.) देखें 'पत्यर' ।
 पत्नी-(सं. स्त्री.) वेद-विधान के अनुसार विवाहिता स्त्री, भार्या, जाया, दारा, सर्वाभिणी; -त्व-(पुं.) पत्नी होने का भाव या धर्म; -वत्-(वि.) स्त्री की तरह, पत्नी के समान; -व्रत-(पुं.) अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्री के साथ गमन न करने का संकल्प या नियम ।
 पत्य-(सं. पुं.) पति या स्वामी होने का भाव, यथा-सेनापत्य ।
 पत्याना-(हि. क्रि. स.) देखें 'पतिआना' ।
 पत्यारी-(हि. स्त्री.) पंक्ति, पाँत ।
 पत्योरा-(हि.पुं.) एक प्रकार की घी या तेल में बनाई हुई साग-पत्तों की पकीड़ी ।
 पत्र-(सं. पुं.) पत्ता, तेजपत्ता, चिड़ियों का पर, तीर में लगा हुआ पर, पन्ना, पत्री, चिट्ठी, धातु का पत्तर, लिखा हुआ कागज, पट्टा, समाचार-पत्र, पृष्ठ; -क-(पुं.) वृक्ष का पत्ता, तेजपत्ता, पत्तों की लड़ी, पलास का वृक्ष; -कार-(हि. पुं.) समाचारपत्र का संपादक; -कृच्छ्र-(पुं.) वह व्रत जिसमें पत्तों का रस पीकर निर्वाह किया जाता है; -गुप्त-(पुं.) त्रिवारा, सेंहड़; -ज-(पुं.) तेजपत्र, तेजपात; -द्रुम-(पुं.) तालवृक्ष, ताड़ का पेड़; -परशु-(पुं.) सोनार या लोहार की छेनी; -पाल-(पुं.) लंबा छुरा या कटार; -पाली-(स्त्री.) कर्तनी, कैंची, वाण का पंखवाला भाग; -पुष्प-(पुं.) लाल तुलसी, छोटा उपहार या भेट; -पुष्पक-(पुं.) मूर्जपत्र, भोजपत्र; -पुष्पा-(स्त्री.) लाल पत्ती की तुलसी; -बंध-(पुं.) फलों और पत्तों की सजावट; -वाल-(पुं.) क्षेपणी, नाव का डौंडा; -भंग-(पुं.) वे चित्र और रेखायें जो स्त्रियाँ शोभा या सुन्दरता बढ़ाने के लिये स्तन, कपोल आदि पर बनाती हैं; -मंजरी-(स्त्री.) पत्ते का अगला भाग; -माल-(पुं.) बेंत का पौधा; -माला-(स्त्री.) पत्तों की बनी हुई माला; -धौवन-(नपुं.) नया पत्ता, कोंपल; -रथ-(पुं.) पक्षी, चिड़िया; -लता-(स्त्री.) वह लता जिसमें समग्र प्रायः पत्ते ही पत्ते हों; -बल्ली-(स्त्री.) रुद्रजटा, पान; -बाज-(पुं.) पक्षी, चिड़िया, वाण; -बाहू-(पुं.)

वाण, तीर, चिड़िया, चिट्ठीरसाँ, हर-कारा; (वि.) चिट्ठी ले जानेवाला; -विष-(पुं.) पत्तों से निकाला हुआ विष; -वैष्ट-(पुं.) कान में पहिने का एक आभूषण, करनफूल; -व्यवहार-(पुं.) चिट्ठी लिखने और उत्तर पाने की क्रिया; -शाक-(पुं.) वह पौधा जिसके पत्तों का शाक पकाकर खाया जाता है; -शिरा-(स्त्री.) पत्तों की नस; -श्रेणी-(स्त्री.) देखें 'पत्रावली'; -श्रेष्ठ (पुं.) विल्वपत्र, वेल्पत्र ।
 पत्रांग-(सं. पुं.) लाल चन्दन, बक्कम, भोजपत्र, कमलगट्टा ।
 पत्रांजन-(सं. पुं.) मसी, काली स्याही ।
 पत्रा-(हि.पुं.) तिथिपत्र, जन्त्री, पंचांग, पन्ना, पृष्ठ ।
 पत्राख्य-(सं. पुं.) तेजपत्ता, तालीसपत्र ।
 पत्रावलि, पत्रावली-(सं. स्त्री.) देखें 'पत्रमंग', पत्तों की पंक्ति ।
 पत्रिका-(सं. स्त्री.) चिट्ठी-पत्री, कोई छोटा पत्र, समाचार-पत्र, कोई सामयिक पत्र या प्रकाशन, एक प्रकार का कपूर ।
 पत्रिन्-(सं. पुं.) वाण, तीर, चिड़िया, श्येन, बाज पक्षी, ताड़ का पेड़; (वि.) जिसमें पत्ते हों ।
 पत्रिणी-(सं. स्त्री.) नया अंकुर, कोंपल ।
 पत्रिवाह-(सं.पुं.) हरकारा, चिट्ठीरसाँ ।
 पत्री-(सं. स्त्री.) लिखित, पत्र, चिट्ठी; (पुं.) दौने का पौधा, ताड़ का पेड़, खैर का वृक्ष; (हि. स्त्री.) हाथ में पहिने का एक आभूषण ।
 पथ-(सं. पुं.) पंथ, मार्ग, व्यवहार आदि की रीति, विधान; (हि.पुं.) पथ्य, रोग के लिये उपयुक्त हलका आहार; -क-(पुं.) प्रान्त, मार्ग; -कल्पना-(स्त्री.) जादू का खेल, इन्द्रजाल; -गामी, -चारी-(पुं.) पथिक, बटोही; -दर्शक-(पुं.) मार्गदर्शक; -प्रदर्शक-(पुं.) देखें 'पथदर्शक' ।
 पथनार-(हि. स्त्री.) गोबर के उपले या गोहरे बनाने का काम, पीटन या मारने की क्रिया ।
 पथरकला-(हि. पुं.) पुराने ढंग की कड़ा-वीन या बंदूक जिसकी बारूद में चकमक पत्यर से आग उत्पन्न की जाती थी ।
 पथरचटा-(हि. पुं.) एक प्रकार की औपवि पत्यरचटा ।
 पथरना-(हि.क्रि.सं.) शस्त्र को पत्यर पर रगड़कर पैना करना ।
 पथराना-(हि.क्रि.अ.) सूखकर पत्यर की

तरह कड़ा हो जाना, सजीव न रहना, स्तब्ध या जड़ होना ।
 पथरी-(हि. स्त्री.) अश्मरी नामक रोग, मूत्राशय अथवा गुदे में पत्यर की तरह के छोटे-बड़े टुकड़े पड़ जाने का रोग, कटोरे के आकार का पत्यर का बना हुआ पात्र, चकमक पत्यर, वह पत्यर जिस पर लोहे की चोट पड़ने से आग निकलती है, चकमक पत्यर, एक प्रकार की मछली ।
 पथरीला-(हि. वि.) पत्यरों से युक्त, जिसमें पत्यर हों ।
 पथरीदी-(हि. स्त्री.) पत्यर की कटोरी, पथरी ।
 पथिक-(सं. पुं.) मार्ग पर चलनेवाला, यात्री; -शाला-(स्त्री.) सराय, यात्रियों के ठहरने की धर्मशाला ।
 पथिका-(सं. स्त्री.) काली द्राक्षा, मुनक्का ।
 पथिकार-(सं. वि.) मार्ग बनानेवाला ।
 पथिकाश्रम-(सं. पुं.) पथिकों के ठहरने का स्थान ।
 पथिन्-(सं. पुं.) पथ, मार्ग, पथ पर चलनेवाला ।
 पथिल-(सं. पुं.) बोझ ढोनेवाला, पथिक, यात्री ।
 पथी-(हि. पुं.) पथिक, यात्री, मार्ग पर चलनेवाला ।
 पथु-(हि. पुं.) पथ, मार्ग ।
 पथेया-(हि. पुं.) देखें 'पाथेय' ।
 पथेरा-(हि.पुं.) ईंट पाथनेवाला, कुम्हार ।
 पथौरा-(हि. पुं.) गोबर पाथने का स्थान ।
 पथ्य-(सं. वि.) हितकर (चिकित्सा); (पुं.) वह हलका और शीघ्र पचनेवाला भोजन जो गी के लिये लाभकारक हो, सेंधा नमक, छोटी हूरें, उसका पेड़, हित, कल्याण, संग्र; (मुहा.)-से रहना-संयम से रहना; -करी-(स्त्री.) एक प्रकार का लाल धान; -का-(स्त्री.) मेथिका, मेथी; -भोजन-(पुं.) लाभकारक आहार; -शाक-(पुं.) चौलाई का साग ।
 पथ्या-(सं. स्त्री.) हरीतकी, हूरें, आर्या-छन्द का एक भेद ।
 पथ्यापथ्य-(सं. वि. पुं.) रोग के लिए हितकर और अहितकर (द्रव्य) ।
 पथ्यावकत्र-(सं. पुं.) मात्रावृत्त का एक भेद ।
 पद-(सं. पुं.) पैर, पाँव, डग, कदम, पर का चिह्न, प्रदेश, व्यवसाय, काम, रक्षा, स्थान, चिह्न, किरण, श्लोक या छन्द का चौथा भाग, चरण; (जूता, छाता,

वस्त्र, पात्र, आमूषण आदि) द्रव्य जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है, छः अंगुलियों की नाप, ऋग्वेद या यजुर्वेद का पद-पाठ, विभक्तियुक्त शब्द या घातु, दर्जा, मोक्ष, निर्वाण, गीत, भजन ।

पदक-(सं. पुं.) एक प्रकार का आमूषण जिस पर किसी देवता के पैरों का चिह्न बना हो, सोना-चाँदी अथवा अन्य घातु का बना हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा जो कोई विशिष्ट या मानक कार्य करने के उपलक्ष्य में किसी व्यक्ति या समाज को दिया जाता है, (यह प्रशंसा-सूचक उपहार या पुरस्कार होता है।)

पदग-(सं.पुं.) पैदल चलनेवाला प्यादा ।

पदगोत्र-(सं. पुं.) भरद्वाज आदि चार ऋषियों का गोत्र ।

पदचतुराङ्ग-(सं. पुं.) विषम वृत्त का एक भेद ।

पदचर-(सं. पुं.) पैदल, प्यादा ।

पदचारी-(सं. वि.) पैदल चलनेवाला ।

पदचिह्न-(सं. पुं.) वह चिह्न जो चलते समय भूमि पर बन जाता है ।

पदच्छेद-(सं. पुं.) सन्धि और समास-युक्त किसी वाक्य के प्रत्येक पद का व्याकरण के नियमों के अनुसार विवरण बतलाना ।

पदच्युत-(सं. वि.) अपने पद या स्थान से हटा या गिरा हुआ ।

पदच्युति-(सं. स्त्री.) अपने पद से हटने या गिरने की क्रिया ।

पदज-(सं. पुं.) पैर की अँगुली, शूद्र; (वि.) जो पैर से उत्पन्न हो ।

पदज-(सं. वि.) मार्ग जाननेवाला ।

पदतल-(सं. पुं.) पैर का तलवा ।

पदता, पदत्व-(सं. स्त्री., पुं.) ओहदा ।

पदत्याग-(सं.पुं.) अपना पद या ओहदा छोड़ने की क्रिया ।

पदत्राण-(सं. पुं.) पैरों की रक्षा करनेवाला, जूता ।

पदत्रान-(हि. पुं.) देखें 'पदत्राण' ।

पदत्री-(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया ।

पददलित-(सं. वि.) पैरों से कुचला हुआ, दबाकर हीन किया हुआ ।

पददारिका-(सं.स्त्री.) पैर का एक रोग, बवाई ।

पदन्यास-(सं. पुं.) गमन करना, चलना, पैर रखने की एक मुद्रा, गोखरू, पद रचने का काम ।

पदपंथित-(सं.स्त्री.) पदश्रेणी, पैर का चिह्न

पदपद्धति-(सं. स्त्री.) पैर के चिह्न ।

पदपलटो-(सं.स्त्री.) एक प्रकार का नाच ।

पदवन्ध-(सं. पुं.) पद-चिह्न ।

पदभंजिका-(सं.स्त्री.) पंजिका, टिप्पणी ।

पदम-(हि.पुं.) वादाम की जाति का एक जंगली पेड़; -चल-(पुं.) रेवंद वृक्ष;

-नाभ-(पुं.) पद्मनाभ, विष्णु, सूर्य ।

पदमाकर-(हि. पुं.) जलाशय, तालाब ।

पदमाला-(सं. स्त्री.) पदश्रेणी, पैरों के चिह्न ।

पदमूल-(सं. पुं.) पैर का तलवा ।

पदमेत्री-(सं.स्त्री.) (काव्य म) अनुप्रास ।

पदयोजना-(सं. स्त्री.) कविता बनाने के लिये शब्दों को जोड़ना ।

पदर-(हि. पुं.) ड्योड़ीदारों के बैठने का स्थान ।

पदरथी-(सं. पुं.) जूता, खड़ाऊँ ।

पदरिपु-(हि. पुं.) कटक, काटा ।

पदवाद्य-(सं. पुं.) प्राचीन काल का एक प्रकार का ढोल ।

पदवाना-(हि.क्रि.स.) पादने का काम दूसरे से कराना ।

पदवाय-(सं. वि.) मार्ग दिखलानेवाला ।

पदवि-(सं. स्त्री.) पद्धति, परिपाटी, पन्थ, उपाधि, नियोग ।

पदविग्रह-(सं.पुं.) पदच्छेद ।

पदविच्छेद-(सं. पुं.) पदों का विच्छेद, पदों का पदच्छेद ।

पदवी-(सं. स्त्री.) पद्धति, परिपाटी, विधि, उपाधि ।

पदसमूह-(सं. पुं.) कविता का चरण, पदपाठ ।

पदस्थ-(सं. वि.) जो किसी पद पर हो, जो अपने पैरों के बल खड़ा हो ।

पदांक-(सं. पुं.) पैरों का चिह्न ।

पदांत-(सं. पुं.) पद का शेष, पद का अन्त ।

पदांतर-(सं. पुं.) स्थानान्तर, दूसरा पद ।

पदाति, पदातिक-(सं. पुं.) पदल सिपाही, प्यादा; (वि.) पैदल चलनेवाला ।

पदातिका-(हि. पुं.) पदल सेना ।

पदाधिकारी-(सं. पुं.) वह जो किसी पद पर नियुक्त हो, अधिकारी ।

पदाना-(हि.क्रि.स.) पादने का काम दूसरे से कराना, बहुत दिक करना, छकाना ।

पदानुराग-(सं.पुं.) देव-चरणों में भक्ति ।

पदार-(सं. पुं.) पाद-बलि, पैर की पूल ।

पदारथ-(हि. पुं.) देखें 'पदार्थ' ।

पदारविद-(सं. पुं.) पद्मरूपी पैर ।

पदार्य-(सं. पुं.) वह जल जो किसी अतिथि या पूज्य के पैर धोने के लिये दिया जाय ।

पदार्य-(सं. पुं.) धर्म, सत्त्व, वस्तु, पुराण के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वैद्यक के अनुसार रस, गुण, विपाक, वीर्य और शक्ति, पद का अर्थ, शब्द का आशय, सांख्य-दर्शन में प्रकृति, विकृति, प्रकृति-विकृति और अनुभव-ये चार प्रकार के पदार्य माने गये हैं, आधुनिक नैयायिकों के मत से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये सात पदार्य हैं ।

पदार्यवाद-(सं. पुं.) वह सिद्धान्त जिसमें भौतिक पदार्यों की ही सत्ता मानी जाती है और ईश्वर तथा आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता ।

पदार्य-विज्ञान-(सं.पुं.) वह विज्ञान या शास्त्र जिसके द्वारा भौतिक पदार्यों, और उनके व्यापारों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है ।

पदार्य-विद्या-(सं. स्त्री.) वह शास्त्र जिसमें पदार्यों के गुणावगुण का विचार करते हुए उनके कार्य आदि का वर्णन किया जाता है ।

पदारपण-(सं. पुं.) किसी स्थान में पैर रखने या जाने की क्रिया । (इस शब्द का प्रयोग केवल माननीय व्यक्ति के लिये किया जाता है ।)

पदावनत-(सं.वि.) विनीत, नम्र, जो पैरों के बल झुका हो, जो प्रणाम करता हो ।

पदावली-(सं. स्त्री.) पद-समूह, वाक्यों की श्रेणी, भजनों का संग्रह ।

पदाश्रित-(सं. वि.) शरण में आया हुआ, जो आश्रय में रहता हो ।

पदास-(हि.स्त्री.) पादने का भाव, पादने की प्रवृत्ति ।

पदासन-(सं. पुं.) पादपीठ, जिस पर पैर रखा जाय ।

पदासा-(हि.वि.) जिसे पादने की प्रवृत्ति हो

पदिक-(सं. पुं.) पदाति, पैदल सेना, गले में पहिने का एक प्रकार का गहना ।

पदी-(हि. पुं.) पैदल, प्यादा ।

पदु-(हि. पुं.) पद ।

पदुम-(हि.पुं.) देखें 'पद', धोले के जरीर पर का एक चिह्न ।

पदुमिनी-(हि. स्त्री.) देखें 'पदिनी' ।

पदोड़ा-(हि. पुं.) जो बहुत पादता हो, उरथोठ, कायर ।

पदोदक-(सं. पुं.) पैर धोने का जल, चरणामृत ।

पदटिका-(सं. स्त्री.) एक मातृकाशब्द ।

पदड़ी-(हि. स्त्री.) पदटिका ।

पदति—(सं. स्त्री.) पथ, पंक्ति, वह ग्रन्थ जिसमें किसी मौलिक पुस्तक का तात्पर्य समझाया गया है, पदवी, प्रणाली, रीति, ढंग, परिपाटी, कार्यप्रणाली, विधि, विधान, कर्म या संस्कार की विधि ।

पदरि(री)—(हि. पुं.) देखें 'पदटिका' ।

पद्म—(सं. पुं.) कमल का फूल या पौधा, हाथी के माथे या सूँड़ पर बनाये हुए चित्र, सेना का पद्मव्यूह, पुराण के अनुसार एक कल्प का नाम, सीसक, सीसा, कुवेर की नौ निधियों में से एक, पुष्करमूल, कुट नाम की औषधि, गणित में सौ नील की संख्या, एक वर्णवृत्त का नाम, साँप के फन पर का चित्रित चिह्न, शरीर पर का सफेद दाग, एक प्रकार का गले का गहना, विष्णु का एक आयुध, सामुद्रिक के अनुसार पैर पर का एक शुभ चिह्न, कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम, एक प्रकार का सर्प, तन्त्र के अनुसार शरीर के भीतरी भाग का एक कल्पित कमल, वलदेव का एक नाम, विभिन्न प्रकार के रतिवन्धों में से एक, एक नरक का नाम, एक प्राचीन नगर का नाम; -क—(पुं.) कुट नाम की औषधि, सफेद कोढ़; -कंद—(पुं.) कमल की जड़, मिस्स, भसींड; -कर—(पुं.) पद्मपाणि, विष्णु; -किंजल्क—(पुं.) कमल का केसर; -कौट—(पुं.) एक प्रकार का विपैला कीड़ा; -कैतन—(पुं.) गरुड़ के एक पुत्र का नाम; -केतु—(पुं.) मृणाल के आकार का एक पुच्छल तारा; -केशर—(पुं.) कमल का पुष्प-राग; -कोप—(पुं.) कमल (फूल) के बीच का छत्ता; -गर्भ—(पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, शिव, महादेव, कमल का भीतरी भाग; -गुणा—(स्त्री.) लक्ष्मी; -गूहा—(स्त्री.) पद्मालया, लक्ष्मी का एक नाम; -चारिणी—(स्त्री.) शमी वृक्ष, हलदी, लाख, लाक्षा, गेंदा; -ज—(पुं.) चतुर्मुख, ब्रह्मा; -तंतु—(पुं.) मृणाल, कमल की डंडी; -दर्शन—(पुं.) श्रौवास, लोहवान; -नाभ—(पुं.) विष्णु, महादेव, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम, एक सर्प का नाम, एक स्तम्भन-मंत्र; -नाभि—(पुं.) पद्मनाभ, विष्णु; -नाल—(पुं.) मृणाल, कमलदंड; -निधि—(स्त्री.) कुवेर की नौ निधियों में से एक; -पत्र—(पुं.) पुष्करमूल, कमलदल; -पाणि—(पुं.) ब्रह्मा, बुद्ध की एक मूर्ति, सूर्य; -पाद—(पुं.) शंकराचार्य के एक प्रधान

शिष्य का नाम; -पुष्प—(पुं.) कनेर का पेड़, एक प्रकार की चिड़िया; -प्रिया—(स्त्री.) जरत्कार मुनि की पत्नी, गायत्री रूपी महादेवी; -बंध—(पुं.) एक प्रकार का चित्रकाव्य जिसमें अक्षर इस प्रकार लिख जाते हैं कि उनमें कमल का रूप बन जाता है; -बंधु—(पुं.) सूर्य, भ्रमर, भौरा; -भास, -भू—(पुं.) विष्णु; -मय—(वि.) पद्मयुक्त, पद्मपूर्ण; -मालिनी—(स्त्री.) गंगा; -माली—(पुं.) एक राक्षस का नाम; -मुख—(वि.) कमल के समान मुखवाला; -मुखी—(स्त्री.) भटकटैया, दूव; -मुद्गा—(पुं.) एक तान्त्रिक मुद्रा; -योलि—(पुं.) ब्रह्मा, बुद्ध का एक नाम; -रज—(पुं.) कमल का केशर; -राग—(हि. पुं.) लाल रंग का प्रसिद्ध मानिक; -रेखा—(स्त्री.) सामुद्रिक के अनुसार हथेली पर की एक शुभ रेखा; -रेणु—(पुं.) पद्मकेशर; -लांछन—(पुं.) ब्रह्मा, सूर्य, कुवेर, बुद्ध; -लांछना—(स्त्री.) तारा, लक्ष्मी, सरस्वती; -वासा—(स्त्री.) लक्ष्मी; -बीज—(पुं.) कमल का बीज, कमलगट्टा; -बीजाभ—(पुं.) मखान फल, मखाना; -व्यूह—(पुं.) एक प्रकार की समाधि, प्राचीन काल में युद्ध के समय किसी व्यक्ति या वस्तु की रक्षा के लिये सेना स्थापित करने की एक विधि, (इसमें व्यवह-रचना कमल के आकार की हो जाती थी); -शायिनी—(स्त्री.) एक जलचर पक्षी; -समासन, -संभव—(पुं.) ब्रह्मा; -सूत्र—(पुं.) कमल के फूलों की माला; -सुषा—(स्त्री.) गंगा, दुर्गा; -हास—(पुं.) विष्णु ।

पद्मांतर—(सं. पुं.) कमल के पत्ते ।

पद्मा—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी, मनसादेवी, कमलदण्ड, मजीठ, भादों सुदी एकादशी, कुसुंम का फूल, लवंग, गेंदे का पौधा ।

पद्माकर—(सं. पुं.) बड़ा तालाव या झील जिसमें कमल उत्पन्न होते हैं ।

पद्माक्ष—(सं. पुं.) कमलगट्टा, विष्णु ।

पद्माल—(हि. पुं.) पदम काठ औषधि ।

पद्माधीश—(सं. पुं.) विष्णु ।

पद्मालय—(सं. पुं.) ब्रह्मा ।

पद्मालया—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी, गंगा, लवंग ।

पद्मावती—(सं. स्त्री.) मनसा देवी, पद्मादेवी, गेंदे का पौधा, पटना नगर का प्राचीन नाम, लक्ष्मी, स्वर्ग की एक अप्सरा का नाम, युधिष्ठिर की एक रानी का नाम ।

पद्मासन—(सं. पुं.) ब्रह्मा शिव, सूर्य, मंथुन करने का एक आसन, योग-साधन का एक आसन जिसमें वाई जाँघ पर दाहिनी जाँघ रखी जाती है और छाती पर अँगूठा रखकर नासिका का अग्रभाग देखा जाता है, पद्म के आकार का धातु-निर्मित आसन ।

पद्मिनी—(सं. स्त्री.) छोटा पद्म, कमलिनी, कोक शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के चार भेदों में से सर्वश्रेष्ठ भेद, सरोवर, तालाव, पद्म, कमल, कमलदण्ड, हथिनी, चित्तौर की एक प्रसिद्ध रानी का नाम, लक्ष्मी ।

पद्मेशय—(हि. पुं.) विष्णु ।

पद्मोत्तम, पद्मोत्तर—(सं. पुं.) कुसुंम का फूल ।

पद्मोद्भव—(सं. पुं.) ब्रह्मा ।

पद्मोद्भवा—(सं. स्त्री.) मनसा देवी ।

पद्य—(सं. पुं.) कविता, काव्य, श्लोक, पिगल के नियमों के अनुसार चार चरणोंवाला छन्द; (पद्य दो प्रकार का होता है। जिसके अक्षर मान होते हैं उसको वृत्त तथा जो मात्रा के अनुसार होता है उसको जाति कहते हैं); वह कीचड़ जो सूखा न हो, बूढ़; (वि.) पैरों से संबंध रखनेवाला, जिसमें कविता के चिह्न हों ।

पद्यमय—(सं. वि.) पद्यपूर्ण ।

पद्या—(सं. स्त्री.) स्तुति, प्रशंसा, मार्ग शंकरा, गुड़ ।

पद्यात्मक—(सं. वि.) जो पद्यमय या छंदो-बद्ध हो ।

पदथ—(सं. पुं.) पैदल चलनेवाला ।

पद्व—(सं. पुं.) भूलोक, रथ, मार्ग ।

पधरना—(हि. क्रि.अ.) किसी प्रतिष्ठित या पूज्य व्यक्ति का आना ।

पधराना—(हि. क्रि. स.) सम्मानपूर्वक ले जाना, किसी को आदरपूर्वक ले जाकर बैठाना ।

पधरावनी—(हि. स्त्री.) आदरपूर्वक किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ले जाकर बैठान की क्रिया, पधारने की क्रिया, किसी देवता का स्थापन ।

पधारना—(हि. क्रि.अ.स.) चला जाना, आ पहुँचना, गमन करना, आना, चलना, प्रतिष्ठित करना, आदरपूर्वक बैठाना ।

पनंग—(हि. पुं.) सर्प, साँप ।

पन—(हि. पुं.) संकल्प, प्रतिज्ञा, आयु के चार भागों में से एक, (ये चार विभाग, वाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था हैं); (हि. प्रत्य.) भाव-वाचक संज्ञा बनाने में प्रयुक्त होता है,

यथा—कड़ापन, लड़कपन ।
 पनकटा—(हिं. पूं.) वह मनुष्य जो खेतों में इधर-उधर सिंचाई के लिये पानी ले जाता है ।
 पनकपड़ा—(हिं. पूं.) पानी में भिगाया हुआ लता जो शरीर में कहीं पर कट जाने के घाव पर बाँधा जाता है ।
 पनकाल—(हिं. पूं.) बति वर्षा के कारण होनेवाला अकाल ।
 पनकुट्टी—(हिं. स्त्री.) पान कूटने का छोटा खरल ।
 पनकौवा—(हिं. पूं.) एक प्रकार का जलपक्षी ।
 पनगनि—(हिं. स्त्री.) सर्पिणी ।
 पनगाचा—(हिं. पूं.) पानी से सींचा हुआ खेत ।
 पनघट—(हिं. पूं.) पानी भरने का घाट, वह घाट जहाँ लोग पानी भरते हैं ।
 पनच—(हिं. स्त्री.) प्रत्यंचा, घनुप की डोरी, चिल्ला ।
 पनचक्की—(हिं. स्त्री.) पानी की शक्ति से चलाई जानेवाली चक्की या कल ।
 पनचोरा—(हिं. पूं.) वह पात्र जिसकी पेंदी चौड़ी और मुँह छोटा हो ।
 पनडब्बा—(हिं. पूं.) पान रखने का डब्बा ।
 पनडुब्बा—(हिं. पूं.) पानी में गोता लगानेवाला, पानी में गोता लगाकर मछली पकड़नेवाली चिड़िया, जलराय में रहनेवाला एक प्रकार का कल्पित प्रत, मुरगावी ।
 पनडुब्बी—(हिं. स्त्री.) पानी में डूबकी लगाकर मछली पकड़नेवाली चिड़िया, एक प्रकार का यंत्र-चालित छोटा जंगी जहाज जो पानी में डूबकर चलता है ।
 पनपना—(हिं. क्रि. अ.) पानी मिलने के कारण फिर से हरा हो जाना, रोग से मुक्त होकर स्वस्थ होना ।
 पनपनाहट—(हिं. स्त्री.) पन-पन का शब्द ।
 पनपाना—(हिं. क्रि. स.) ऐसा कार्य करना जिसमें कोई वस्तु पनपे ।
 पनफर—(सं. पूं.) फलित ज्योतिष के अनुसार लग्न से दूसरा, पाँचवाँ, आठवाँ और न्यारहवाँ स्थान ।
 पनदृष्टा—(हिं. पूं.) पान के बीड़े रखने का छोटा डब्बा ।
 पनविडिया—(हिं. स्त्री.) डंक मारनेवाला पानी में रहनेवाला एक कीड़ा ।
 पनभरा—(हिं. पूं.) पानी भरनेवाला, पनहरा ।
 पनलगवा—(हिं. पूं.) देखें 'पनकटा' ।
 पनव—(हिं. पूं.) देखें 'प्रणव' ।
 पनवाँ—(हिं. पूं.) हुमेल के बीच का पत्र ।

पनवाड़ी—(हिं. स्त्री.) पान का खेत, पान बेचनेवाला, तमोली ।
 पनवारा—(हिं. पूं.) पत्तों की बनी हुई पत्तल जिस पर रखकर लोग भोजन करते हैं, एक आदमी के खाने के लिए पत्तल-भर भोजन ।
 पनस—(सं. पूं.) कटहल ।
 पनसखिया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का पीवा ।
 पनसतालिका, पनसनालिका—(सं. पूं.) कटहल ।
 पनसल्ला—(हिं. स्त्री.) वह स्थान जहाँ प्यासे लोगों को पानी पिलाया जाता है, पनसाल, प्याळ ।
 पनसाखा—(हिं. पूं.) एक प्रकार की मशाल जिसमें तीन या पाँच बत्तियाँ जलती हैं ।
 पनसार—(हिं. पूं.) पानी से भली नाँति सींचने का काम ।
 पनसारी—(हिं. पूं.) देखें 'पँसारी' ।
 पनसाल—(हिं. स्त्री.) वह स्थान जहाँ सर्वसाधारण को पानी पिलाया जाता है, पौसरा, पानी की गहराई नापने की क्रिया ।
 पनसिका—(सं. स्त्री.) कान के भीतर फुत्ती होने का रोग ।
 पनसी—(सं. स्त्री.) पनसिकंका ।
 पनसुइया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी नाव जिस पर एक ही खेनेवाला दोनों डोंड़े चला सकता है ।
 पनसूर—(हिं. पूं.) एक प्रकार का बाजा ।
 पनसेरी—(हिं. स्त्री.) पाँच सेर की वाट, पंसेरी ।
 पनसोई—(हिं. स्त्री.) देखें 'पनसुइया' ।
 पनहड़ा—(हिं. पूं.) तमोली का पानी रखने का पात्र ।
 पनहरा—(हिं. पूं.) पानी भरनेवाला नृत्य, पनभरा, सोनार की पानी रखने की अथरी ।
 पनहा—(हिं. पूं.) कपड़े, नीत आदि की चौड़ाई, गूँठ आराय, मर्म, चोरी का पता लगानेवाला, चुराई हुई वस्तु को लौटा देने के लिये दिया जानेवाला पुरस्कार ।
 पनहारा—(हिं. पूं.) वह जो पानी भरने का काम करता हो, पनचरा ।
 पनहिया—(हिं. स्त्री.) देखें 'पनही', जूता ।
 पनहियाभद्र—(हिं. पूं.) सिर पर जूतों की मार, सिर पर इतने जूते पड़ना कि बाल उड़ जायँ ।
 पनही—(हिं. स्त्री.) उपानह, जूता, जूती ।
 पना—(हिं. पूं.) आम, इमली आदि से बनाया हुआ एक प्रकार का शरबत, पानक, पना ।

पनाती—(हिं. पूं.) पुत्र अथवा कन्या का नाती, पोते अथवा नाती का लड़का ।
 पनारा, पनाला—(हिं. पूं.) देखें 'परनाला' ।
 पनासना—(हिं. क्रि. स.) पालन-पोषण करना ।
 पनाह—(फ्रा. स्त्री.) रक्षा, परिचाय, वचाव, शरण ।
 पनिक—(हिं. पूं.) जुलाहों का कैंची के आकार का एक अस्त्र ।
 पनिकट—(हिं. पूं.) देखें 'पनघट' ।
 पनिक—(हिं. पूं.) देखें 'पनच' ।
 पनिया—(हिं. वि.) पानी में उत्पन्न, पानी मिला हुआ, पानी में रहनेवाला;—स्रोत—(पुं.) तालाब या कुआँ जिसमें पानी का स्रोत हो; (वि.) बहुत गहरा ।
 पनियाला—(हिं. पूं.) एक प्रकार का रंगीन कपड़ा, एक प्रकार का फल ।
 पनिहा—(हिं. वि.) पानी में रहनेवाला, जिसमें पानी मिला हो, जल-संवेधी; (पुं.) जासूस ।
 पनिहार—(हिं. पूं.) देखें 'पनहरा' ।
 पनी—(हिं. पूं.) प्रतिष्ठा करनेवाला पुरुष ।
 पनीर—(फ्रा. पूं.) फाड़े हुए दूध का छेना, दही आदि के मिश्रण से बनाया जानेवाला एक खाद्य पदार्थ ।
 पनीरी—(हिं. स्त्री.) वे छोटे पाँचे जो एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में रोपे जाते हैं, बेहन की ब्यारी ।
 पनीला—(हिं. स्त्री.) जलयुक्त, जिसमें पानी मिला हो ।
 पनु—(सं. स्त्री.) स्तुति, प्रशंसा ।
 पनुआँ—(हिं. पूं.) कड़ाहे के घोंवन का शरबत; (वि.) फीका, जिसमें मिठास कम हो ।
 पनयी—(हिं. स्त्री.) हाथों में पानी लगाकर पोई हुई रोटी ।
 पनेहरा—(हिं. पूं.) देखें 'पनहरा' ।
 पनैला—(हिं. पूं.) गरम कपड़ों के नीचे अस्तर देने का चिकना गाढ़ा कपड़ा ।
 पनैआ—(हिं. पूं.) पान के पत्तों की पकाड़ी ।
 पनौटी—(हिं. स्त्री.) पान रखने की पिटारी, पानदान ।
 पन्न—(सं. वि.) गिरा हुआ, पड़ा हुआ, नष्ट, गत ।
 पन्नई—(हिं. वि.) पन्ने के रंग का, गहरे हरे रंग का ।
 पन्नग—(सं. पूं.) सर्प, साँप, पन्नकाष्ठ; (हिं. पूं.) पन्ना, मरकत मणि;—कैसर—(पुं.) नागकेशर का फूल;—नाशन—(पुं.) गरड़;—पति—(पुं.) सैपनाग ।

पन्नगारि, पन्नगाशन—(सं. पुं.) गरुड़ ।
 पन्नगी—(सं. स्त्री.) साँपिन, मनसादेवी ।
 पन्ना—(हिं. पुं.) हरे रंग का एक प्रसिद्ध रत्न, पुस्तक के दो पृष्ठ ।
 पन्नी—(हिं. स्त्री.) रांगे या पीतल के बहुत पतले पत्र, सोनहला या रुपहला कागज, बारूद की एक तौल जो आध-सेर के बराबर होती है; (पुं.) पठानों की एक जाति; -साज—(पुं.) पन्नी बनानेवाला; -साजी—(स्त्री.) पन्नी बनाने का काम, पेशा आदि ।
 पन्थ—(सं. वि.) प्रशंसा करने योग्य ।
 पन्थारी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का सदावहार जंगली वृक्ष ।
 पन्हारा—(हिं. स्त्री.) गेहूँ के खेत में होनेवाला एक तृण ।
 पन्हेयाँ—(हिं. स्त्री.) देखें 'पनही' ।
 पपटा—(हिं. पुं.) देखें 'पपड़ा', छिलका ।
 पपडा—(हिं. पुं.) लकड़ी का पतला सूखा छिलका, चिप्पड़, रोटी के ऊपर का छिलका ।
 पपड़िया—(हिं. वि.) पपड़ीला, पपड़ी-संबंधी; -कत्था—सफेद कत्था ।
 पपड़ियाना—(हिं. क्रि. अ.) बहुत सूख जाना, किसी वस्तु की परत का सूखकर सिकुड़ जाना ।
 पपड़ी, पपरी—(हिं. स्त्री.) किसी वस्तु के ऊपर की परत जो सूखकर कड़ी हो गई हो, धाव के ऊपर की परत, खुरंड, छोटा पापड़, एक प्रकार की मिठाई ।
 पपड़ीला—(हिं. वि.) जिस पर पपड़ी जमी हो, पपड़ीयुक्त ।
 पपनी—(हिं. स्त्री.) पलक के सिरे के बाल, बरौनी ।
 पपहा—(हिं. पुं.) धान की उपज को हानि पहुँचानेवाला एक कीड़ा, एक प्रकार का घुन ।
 पपी—(सं. पुं.) सूर्य, चन्द्रमा ।
 पपीता—(हिं. पुं.) रेंडकी तरह का एक पौधा जिसका फल पकाकर खाया जाता है ।
 पपीहा—(हिं. पुं.) कीड़ा खानेवाला एक पक्षी जो वसन्त और वर्षा ऋतु में बहुधा आम के वृक्षों पर बैठकर बड़े मीठे स्वर में गाता है, चातक, सितार का लोहे का तार ।
 पपैया—(हिं. पुं.) आम का छोटा पौधा, अमोला ।
 पपोदन—(हिं. स्त्री.) एक पौधा जिसके पत्ते बाँधने से फोड़ा पक जाता है ।
 पपोदा—(हिं. पुं.) आँख के ऊपर का चमड़े का परदा, पलक ।

पपोरना—(हिं. क्रि. स.) बाँह ऐंठकर उसकी निहारना ।
 पपोलना—(हिं. क्रि. अ.) चवाना, मुँह चलांना ।
 पवई—(हिं. स्त्री.) मैना की जाति का एक पक्षी ।
 पवारना—(हिं. क्रि. स.) फेंक देना ।
 पवि—(हिं. पुं.) वज्र ।
 पव्वय—(हिं. पुं.) पर्वत, पहाड़ ।
 पमार—(हिं. पुं.) अग्नि कुल क्षत्रियों की एक शाखा, परमार, पवार ।
 पम्मन—(हिं. पुं.) एक प्रकार का मोटा गेहूँ ।
 पयस्, पय—(सं. पुं.) दूध, जल, अन्न, वीर्य, ओज, शक्ति ।
 पयकुंड—(हिं. पुं.) दूध या जल रखने का घड़ा ।
 पयद—(हिं. पुं.) मेघ ।
 पयधि—(हिं. पुं.) देखें 'पयोधि', समुद्र ।
 पयनिधि—(हिं. पुं.) देखें 'पयोनिधि' ।
 पयपान—(हिं. पुं.) दुग्ध-पान, दूध पीना ।
 पयपालिनी—(हिं. स्त्री.) उशीर, खस ।
 पयस्वान—(हिं. वि.) पानीवाला ।
 पयस्विनी—(सं. स्त्री.) नदी, दूध देनेवाली गाय, बकरी, धेनु, रात्रि, गायत्री रूपा महादेवी ।
 पयस्वी—(हिं. वि.) पानीवाला, जिसमें जल हो ।
 पयहारी—(हिं. पुं.) वह तपस्वी या साधु जिसका आहार केवल दूध हो ।
 पयादा—(हिं. पुं.) देखें 'प्यादा' ।
 पयान—(हिं. पुं.) गमन, यात्रा, जाना ।
 पयार, पयाल—(हिं. पुं.) धान के सूखे डंठल जिसमें से दाने निकाल लिये गये हों, पुआल; (मुहा.)—झाड़ना—व्यर्थ परिश्रम करना ।
 पयोगल—(सं. पुं.) घनोपल, ओला ।
 पयोज—(सं. पुं.) पद्म, कमल ।
 पयोजन्मा—(सं. पुं.) मेघ, बादल, मोथा ।
 पयोद—(सं. पुं.) मेघ, बादल, मुस्तक, मोथा ।
 पयोदन—(हिं. पुं.) दूध-भात ।
 पयोदेव—(सं. पुं.) वरुण देवता ।
 पयोधर—(सं. पुं.) स्त्री का स्तन, मोथा, नारियल, तालाव, मदार, कसेरू, पवत, एक प्रकार की ऊँख, समुद्र, गाय का थन, दोहा छन्द का एक भेद, छप्पय छन्द का एक भेद ।
 पयोधरा—(सं. स्त्री.) जल की धारा ।
 पयोधि—(सं. पुं.) समुद्र ।
 पयोनिधि—(सं. पुं.) देखें 'पयोधि', समुद्र ।
 पयोमुख—(सं. वि.) दुग्धपति, दुग्धमुँहा ।
 पयोमुत्—(सं. पुं.) मेघ, मोथा ।
 पयोवाह—(सं. पुं.) देखें 'पयोमुत्' ।
 परच—(सं. अव्य.) तो भी, और भी, परन्तु ।

परंतप—(सं. वि.) शत्रुको संतप्त करनेवाला ।
 परंतु—(सं. अव्य.) किसी उपवाक्य के साथ दूसरे उपवाक्य का वैपरीत्य-भाव-सूचक शब्द, किंतु, लेकिन ।
 परंपरा—(हिं. स्त्री.) एक के पीछे दूसरा, सन्तति, वंश-क्रम; -गत—(वि.) परंपरा से चला आता हुआ ।
 पर—(सं. पुं.) केवल ब्रह्म, मोक्ष, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, शत्रु, ब्रह्मा की आयु; (वि.) श्रेष्ठ, जो बाद का हो, अन्य, दूसरा; (हिं. अव्य.) पश्चात्, पीछे, परन्तु, (प्रत्य.) अधिकरण कारक प्रत्यय; (फा. पुं.) डैना, पंख; (मुहा.)—कट जाना—शक्ति का ह्रास होना; -जमना—उपद्रव खड़ा करने के लिये उद्यत होना; -जलना—साहस न होना; -न भारना—पैर न रख सकना ।
 परई—(हिं. स्त्री.) मिट्टी का पात्र जो दिये से कुछ बड़ा होता है ।
 परकटा—(हिं. वि.) जिसके पर कटे हों ।
 परकना—(हिं. क्रि. अ.) अभ्यास पड़ना, हिलना-मिलना, चसका लगना ।
 परकर्म—(सं. पुं.) दूसरे का काम ।
 परकलत्र—(सं. पुं.) दूसरे की स्त्री ।
 परकसना—(हिं. क्रि. अ.) प्रकाशित होना, प्रकट होना ।
 परकाजी—(हिं. वि.) परोपकारी, दूसरे का उपकार करनेवाला ।
 परकान—(हिं. पुं.) तोप का एक अंग, मूठ ।
 परकाना—(हिं. क्रि. स.) परचाना, धड़का खोलना, चसका लगाना ।
 परकार—(फा. पुं.) वृत्त खींचने का एक प्रसिद्ध आला ।
 परकार्य—(सं. पुं.) दूसरे का कार्य ।
 परकाल—(हिं. पुं.) देखें 'परकार' ।
 परकाला—(हिं. पुं.) सीढ़ी, देहली, चौखट, दहलीज, खण्ड, टुकड़ा, काँच का टुकड़ा, चिनगारी; (मुहा.) आफत का परकाला—प्रचंड या भयंकर मनुष्य ।
 परकास—(हिं. पुं.) देखें 'प्रकाश' ।
 परकासना—(हिं. क्रि. स.) प्रगट करना, प्रकाशित करना ।
 परकिति—(हिं. स्त्री.) देखें 'प्रकृति' ।
 परकीय—(सं. वि.) पराया, दूसरे का ।
 परकीया—(सं. स्त्री.) वह नायिका जो अपने पति को छोड़कर गुप्तरूप से अन्य पुरुष से प्रेम करती हो ।
 परकृति—(सं. स्त्री.) दूसरे का किया हुआ काम ।
 परकोटा—(हिं. पुं.) गढ़ की रक्षा के लिये इसके चारों ओर बनाई हुई भीत, घुस,

वाँच ।

परख-(हि. स्त्री.) गुण-दोष को सम्यक् ज्ञात करने के लिये उसकी अच्छी तरह देख-भाल या जाँच, परीक्षा, मला-बुरा जानने की शक्ति, पहचान ।

परखना-(हि.क्रि.स.) जाँच करना, परीक्षा करना, गुण-दोष स्थिर करने के लिये अच्छी तरह देखना-मालना, मला-बुरा पहिचानना, प्रतीक्षा करना, आसरा देखना ।

परखवाना-(हि.क्रि.स.) दूसरे से जाँचवाना या परीक्षा कराना ।

परखवैया-(हि.पुं.) परखनेवाला, जाँचने-वाला ।

परखाई-(हि.स्त्री.) परखने का काम या शुल्क ।

परखाना-(हि.क्रि.स.) परखने का काम दूसरे से कराना, परीक्षा कराना, जाँच-वाना ।

परखैया-(हि.पुं.) परखनेवाला ।

परगट-(हि.वि.) देखें 'प्रकट' ।

परगटना-(हि.क्रि.अ.,स.) प्रगट करना, खुलना, प्रगट होना ।

परगत-(सं.वि.) दूसरे के द्वारा अधिकृत ।

परगनी, परगहनी-(हि.स्त्री.) सोनारों का एक औजार जिसमें चाँदी या सोने की गुल्लियाँ ढाली जाती हैं ।

परगसना-(हि.क्रि.अ.) प्रगट होना, प्रकाशित होना ।

परगाछा-(हि.पुं.) दूसरे पेड़ों पर लगने-वाला परजीवी पौधा ।

परगाढ़-(हि.वि.) कठिन, गहरा ।

परगासना-(हि.क्रि.अ.,स.) प्रकाशित होना या करना ।

परगुण-(सं.वि.) दूसरे के लिए उपकारी ।

परग्रथि-(सं.पुं.) अँगुली की गाँठ ।

परघट-(हि.वि.) देखें 'प्रगट' ।

परघनी-(हि.स्त्री.) देखें 'परगहनी' ।

परचंड-(हि.वि.) देखें 'प्रचंड' ।

परचक्र-(सं.पुं.) विपक्षी या शत्रु राज्य ।

परचत-(हि.स्त्री.) जान-पहचान ।

परचना-(हि.क्रि.अ.) धनिष्ठता प्राप्त करना, हिलना-मिलना, चसका लगना, घड़का खुलना ।

परचाना-(हि.क्रि.स.) आकर्षित करना, हिलाना-मिलाना, धनिष्ठता उत्पन्न करना, संकोच हटाना, घड़का खोलना, टेव या चसका लगाना ।

परचार-(हि.पुं.) देखें 'प्रचार' ।

परचारना-(हि.क्रि.स.) प्रचार करना ।

परचित्त-ज्ञान-(सं.पुं.) दूसरे के मन का भाव जान लेना ।

परचून-(हि.पुं.) आटा, चावल, दाल, नमक, मसाला आदि भोजन-सामग्रियाँ ।

परचुनी-(हि.पुं.) परचून वेचनेवाला बनिया, मोदी; (स्त्री.) परचुनी का काम ।

परचै-(हि.पुं.) देखें 'परिचय' ।

परच्छंद-(सं.वि.) पराधीन, वह जो दूसरे के अधीन हो ।

परछत्ती-(हि.स्त्री.) सामग्रियाँ रखने के लिये कोठरी के भीतर भीत से सटाकर कुछ ऊँचाई पर बनाई हुई पाटन, टाँड़, हलका छप्पर, छाजन ।

परछन-(हि.पुं.) विवाह की एक रीति जिसमें द्वार पर वारात के प्रस्थान के समय स्त्रियाँ वर की पूजा करती हैं और आरती उतारती हैं ।

परछना-(हि.क्रि.स.) वर का परछन करना ।

परछा-(सं.पुं.) भीड़ हटना, समाप्ति, निर्णय ।

परछाई-(हि.स्त्री.) प्रकाश के अवरोध के कारण पड़नेवाली किसी वस्तु की छाया, छायाकृति, प्रतिबिम्ब; (मुहा.) -से डरना-मामूली बातों से भयभीत होना, बहुत डरना ।

परछालना-(हि.क्रि.स.) प्रक्षालन करना, धोना ।

परछिद्र-(सं.पुं.) दूसरे का दोष ।

परजंक-(हि.पुं.) देखें 'पर्यंक' ।

परज-(हि.पुं.) एक राग का नाम; कोयल; (वि.) दूसरे के द्वारा प्रतिपालित ।

परजन-(हि.पुं.) देखें 'परिजन' ।

परजन्य-(हि.पुं.) देखें 'परजन्य' ।

परजवट-(हि.पुं.) देखें 'परजौट' ।

परजा-(हि.स्त्री.) प्रजा, आश्रित-जन, भूस्वामी, आसामी, काम-बंधा करने-वाला ।

परजात-(सं.वि.) दूसरे के द्वारा प्रतिपालित; (पुं.) कोयल, दूसरी जाति या बिरादरी का मनुष्य ।

परजाता-(हि.पुं.) पारिजात, एक मझोले आकार का वृक्ष जिसके सुगन्धित फूल गुच्छों में लगते हैं, इसके फूल की डंठी पौली होती है ।

परजाति-(सं.स्त्री.) दूसरी जाति ।

परजारना-(हि.क्रि.स.) जलाना ।

परजित-(सं.वि.) शत्रु के द्वारा पराजित ।

परजौट-(हि.पुं.) वह वापिक कर जो घर

बनाने के लिये मिली हुई भूमि पर लगता है ।

परणना-(हि.क्रि.स.) विवाह करना ।

परतंचा-(हि.स्त्री.) देखें 'प्रत्यंचा' ।

परतंत्र-(सं.वि.) पराधीन, परवश; (पुं.) उत्तम शास्त्र, उत्तम परिच्छेद ।

परतः-(सं.अव्य.) अन्य से, दूसरे से, पश्चात्, पीछे, आगे ।

परत-(हि.स्त्री.) किसी तल के ऊपर की मोटाई का फैलाव, स्तर, तह, कपड़े, कागज आदि के अलग-अलग भाग जो मोड़ने से नीचे-ऊपर हो जाते हैं ।

परतच्छ-(हि.वि.) देखें 'प्रत्यक्ष' ।

परतल-(हि.पुं.) लद्दू घोंड़े की पीठ पर रखने का बोरा ।

परतला-(हि.पुं.) कपड़े, चमड़े आदि की चौड़ी पट्टी जो कन्धे पर से छाती और पीठ पर होती हुई तिरछी लटकाई जाती है और जिसमें तलवार झूलती है ।

परता-(सं.स्त्री.) श्रेष्ठता, परायापन, परत्व; (हि.पुं.) देखें 'पड़ता' ।

परताजना-(हि.पुं.) सोनारों का एक उपकरण ।

परताप-(हि.पुं.) देखें 'प्रताप' ।

परतापन-(सं.पुं.) वह जो दूसरे को कष्ट देता हो, गरुड के एक पुत्र का नाम ।

परताल-(हि.स्त्री.) देखें 'पड़ताल' ।

परतिग्या-(हि.स्त्री.) देखें 'प्रतिज्ञा' ।

परती-(हि.स्त्री.) बिना जोती हुई भूमि, वह चट्टर जिससे हवा करके अन्न में से मूसा उड़ाया जाता है ।

परतीत-(हि.स्त्री.) देखें 'प्रतीति' ।

परतेजना-(हि.क्रि.स.) त्याग करना, छोड़ना ।

परतौली-(हि.स्त्री.) गली ।

परत्र-(सं.अव्य.) अन्यत्र, दूसरे स्थान में, परलोक में; -भीरु-(वि.) धार्मिक जिसको परलोक का भय हो ।

परत्व-(सं.पुं.) परता, पहिले या पूर्व होने का भाव ।

परथन-(हि.पुं.) देखें 'पलेथन' ।

परदच्छिना-(हि.स्त्री.) देखें 'प्रदक्षिणा' ।

परदनी-(हि.स्त्री.) धोती ।

परदादा-(हि.पुं.) प्रपितामह, दादा का बाप ।

परदार-(सं.स्त्री.) दूसरे की भार्या या पत्नी, परस्त्री; -गमन-(पुं.) परस्त्री-गमन; -गामी-(पुं.) दूसरे की स्त्री से संभोग करनेवाला ।

परदिवस-(सं.पुं.) आज से दूसरा दिन ।

परदेवता-(सं.स्त्री.) श्रेष्ठ या इष्ट देवता ।

परदुग्ध-(हि.पुं.) देखें 'प्रदुग्ध' ।

परदेश-(सं.पुं.) दूसरा देश, विदेश ।

परदेशी-(सं.वि.) विदेशी, दूसरे देश में

रहनेवाला ।

परदुःख—(सं. पुं.) दूसरे का कष्ट ।
 परधर्म—(सं.पुं.) दूसरे का धर्म, श्रेष्ठ धर्म ।
 परदोष—(हि. पुं.) देखें 'प्रदोष' ।
 परधान—(हि. वि.) देखें 'प्रधान'; (पुं.) परिधान ।
 परधाम—(सं.पुं.) वैकुण्ठ, परलोक, ईश्वर, विष्णु ।
 परध्यान—(सं.पुं.) ध्येयनिष्ठ-चिन्तन ।
 परन—(हि. पुं.) प्रतिज्ञा, टेक, अभ्यास, मृदंग आदि वजाने में बोलों के खण्ड ।
 परना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'पड़ना' ।
 परनाना—(हि. पुं.) नाना का पिता ।
 परनाम—(हि. पुं.) देखें 'प्रणाम' ।
 परनाला—(हि. पुं.) मोरी, पनाला ।
 परनाली—(हि. स्त्री.) छोटी मोरी ।
 परनि—(हि. स्त्री.) आदत, टेव ।
 परनी—(हि.स्त्री.) धातु की बनी हुई पत्नी ।
 परनीत—(हि. स्त्री.) नमस्कार, प्रणाम ।
 परपंच—(हि. पुं.) देखें 'प्रपंच' ।
 परपंचक—(हि. वि.) मायावी, बखेड़िया ।
 परपंची—(हि. वि.) धूर्त, बखेड़िया ।
 परपक्ष—(सं. पुं.) विपक्ष की बात, विरोधियों का दल ।
 परपट—(हि.पुं.) समतल भूमि, चौखस मैदान ।
 परपटी—(हि. स्त्री.) देखें 'पपटी' ।
 परपद—(सं. पुं.) श्रेष्ठ पद, मुक्ति ।
 परपराना—(हि. क्रि. अ.) जीम पर तीखा लगना, चुनचुनाना, पड़पड़ाना ।
 परपराहट—(हि.स्त्री.) परपराने की क्रिया ।
 परपाजा—(हि.पुं.) प्रपितामह, दादाका पिता ।
 परपार—(हि.पुं.) दूसरी ओर का किनारा, उस ओर का तट ।
 परपीड़क—(सं. पुं.) दूसरे को कष्ट देनेवाला, दूसरे की पीड़ा न समझनेवाला ।
 परपुरुष—(सं. पुं.) अन्य पुरुष, विष्णु ।
 परपुष्ट—(सं. पुं.) कोकिल, कोयल ।
 परपुष्टा—(सं.स्त्री.) पराश्रया,वेश्या,रंडी ।
 परपूठा—(हि. वि.) पक्व, पक्का ।
 परपूर्वा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जो अपने पति को छोड़कर दूसरा पति करती है ।
 परपोता—(हि. पुं.) देखें 'परप्रपौत्र' ।
 परपपीत्र—(हि.पुं.) पोते का पुत्र, परपोता ।
 परफुल्ल—(हि. वि.) देखें 'प्रफुल्ल' ।
 परफुल्लित—(हि. वि.) देखें 'प्रफुल्लित' ।
 परवंद—(हि. पुं.) नाच की एक गत ।
 परवंध—(हि. पुं.) प्रबंध, व्यवस्था ।
 परव—(हि.पुं.) देखें 'पर्व'; (स्त्री.) किसी रत्न का छोटा टुकड़ा ।
 परवत—(हि. पुं.) पर्वत, पहाड़ ।

परवल—(हि. वि.) देखें 'प्रवल' ।
 परवस—(हि.वि.) देखें 'परवश', पराधीन ।
 परवसताई—(हि. स्त्री.) पराधीनता, परवशता ।
 परवाल—(हि.पुं.) आँख को कष्ट देनेवाले वरौनी के अनावश्यक बाल ।
 परवीन—(हि. वि.) देखें 'प्रवीण' ।
 परव्येस—(हि. पुं.) देखें 'प्रवेश' ।
 परवोध—(हि. पुं.) देखें 'प्रबोध' ।
 परवोधना—(हि.क्रि.स.) ज्ञान का उपदेश देना, जगाना, समझाना, सांत्वना देना ।
 परब्रह्म—(सं. पुं.) निर्गुण और निरुपाधि ब्रह्म ।
 परभाइ—(हि. पुं.) देखें 'प्रभाव' ।
 परभाग—(सं.पुं.) वचा हुआ अंश, दूसरी ओर का भाग, अंतिम भाग ।
 परभाग्योपजीवी—(सं. वि.) दूसरे की कमाई पर जीनेवाला ।
 परभात—(हि. पुं.) देखें 'प्रभात' ।
 परभाती—(हि. स्त्री.) देखें 'प्रभाती' ।
 परभाव—(हि. पुं.) देखें 'प्रभाव' ।
 परभुक्त—(सं.वि.) दूसरे के द्वारा भोगा हुआ ।
 परभुक्ता—(सं. स्त्री.) (वह स्त्री) जो पर-पुरुष से संभोग कर चुकी हो ।
 परभूत—(सं. पुं.) काक, कौवा; (वि.) दूसरे को पालनेवाला ।
 परभृत्य—(सं. पुं.) दूसरे का सेवक ।
 परम—(सं.वि.) उत्कृष्ट,सर्वोत्कृष्ट, प्रधान, मुख्य, अत्यन्त, पहिला; (पुं.) विष्णु, शिव; -गति—(स्त्री.) मुक्ति, मोक्ष; -जा—(स्त्री.) प्रकृति; -तत्त्व—(पुं.) मूल तत्त्व, मूल सत्ता, ब्रह्म, ईश्वर; -देवी—(स्त्री.) महादेवी, पटरानी; -धाम—(पुं.) वैकुण्ठ, स्वर्ग; -पद—(पुं.) मोक्ष, मुक्ति; -पिता—(पुं.) परमेश्वर; -पुरुष—(पुं.) पुरुषोत्तम, विष्णु; -पूतिक—(पुं.) अहिफेन,अफीम; -फल—(पुं.) मोक्ष, मुक्ति; -ब्रह्म-चारिणी—(स्त्री.) दुर्गा; -भट्टारक—(पुं.) महाराजाधिराज, एकछत्र राजाओं की एक प्राचीन उपाधि; -भागवत—(पुं.) वैष्णवों की एक साम्प्रदायिक उपाधि; -महत्—(वि.) सब से बड़ा और व्यापक; -रस—(पुं.) पानी मिला हुआ मट्टा; -हंस—(पुं.) ज्ञान की परम अवस्था को पहुँचा हुआ संन्यासी, वह जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ या मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा ।
 परमट—(हि. पुं.) संगीत में एक ताल ।
 परमपि—(सं.पुं.) वेदव्यास आदि ऋषि ।

परमल—(हि.पुं.) ज्वार या गेहूँ का मुना हुआ दाना ।
 परमा—(हि.स्त्री.) शोभा, छवि, सुन्दरता ।
 परमाणु—(सं.पुं.) पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश—इन पाँचों भूतों का सब से छोटा भाग जिसके फिर विभाग नहीं हो सकते, अत्यन्त सूक्ष्म अणु; -वाद—(पुं.) न्याय तथा वैशेषिक दर्शनों का यह सिद्धान्त कि परमाणुओं से ही जगत् की सृष्टि हुई है; -वादी—(पुं.) परमाणु-वाद को माननेवाला ।
 परमात्मा—(सं. पुं.) परब्रह्म, ईश्वर, चिदात्मा ।
 परमाद्वैत—(सं.पुं.) सर्वभेदरहित परमात्मा, विष्णु ।
 परमानन्द—(सं. पुं.) परम आनन्द-स्वरूप ब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्मानन्द, ब्रह्म के अनुभव का आनन्द ।
 परमान—(हि. पुं.) देखें 'प्रमाण', सत्य वात, अवधि, सीमा ।
 परमानना—(हि.क्रि.स.) प्रमाण मानना, ठीक समझना ।
 परमान्न—(सं.पुं.) पायस, खीर, वह अन्न जो देवता और पितरों को अत्यन्त प्रिय है ।
 परमायु—(सं.स्त्री.) जीवन-काल, अधिक से अधिक आयु, (मनुष्य की परमायु एक सौ वर्ष मानी जाती है ।)
 परमार—(हि.पुं.) राजपूत जाति की एक प्रधान शाखा, पवार ।
 परमारथ—(हि. पुं.) देखें 'परमार्थ' ।
 परमार्थ—(सं.पुं.) उत्कृष्ट पदार्थ, वास्तविक सत्ता, सार वस्तु, मोक्ष, सर्वथा यथार्थ सच्चा सुख; -ता—(स्त्री.) सत्य भाव, मोक्ष; -वादी—(हि. पुं.) तत्त्वज्ञ, वेदान्ती, ज्ञानी; -विद्—(वि.) परमार्थवेत्ता, वेदान्ती ।
 परमार्यो—(सं.वि.) यथार्थ तत्त्व को ढूँढनेवाला, मुमुक्षु, मोक्ष चाहनेवाला ।
 परमाह—(सं.पुं.) शुभ दिन, अच्छा दिन ।
 परमिति—(हि. स्त्री.) मर्यादा ।
 परमुख—(हि. वि.) पराङ्मुख, विमुख, उदासीन आचरण करनेवाला ।
 परमेश, परमेश्वर—(सं. पुं.) सृष्टि आदि को रचनेवाला, सगुण त्रिमूर्ति ब्रह्म, विष्णु, शिव ।
 परमेश्वरी—(सं. स्त्री.) दुर्गा ।
 परमेष्ठ—(सं. पुं.) प्रजापति ।
 परमेष्ठी—(सं.पुं.) अग्नि आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, महादेव, विष्णु, गरुड़, प्रजापति और उनके पुत्र ।

परमैसर—(हि. पुं.) देखें 'परमैश्वर' ।
 परमैश्वर्य—(सं. पुं.) विपुल ऐश्वर्य ।
 परमोद—(हि. पुं.) देखें 'प्रमोद' ।
 परमोधना—(हि. क्रि. स.) जगाना, सम-
 ज्ञाना ।
 पर्यंक—(हि. पुं.) देखें 'पर्यंक' ।
 पररमण—(सं. पुं.) परस्त्री से रमण
 करनेवाला, लम्पट, व्यभिचारी ।
 पररूप—(सं. वि.) दूसरे के समान रूप-
 वाला ।
 पररुड—(हि. पुं.) देखें 'प्रलय' ।
 पररुत—(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष
 जिसकी छाल और जड़ औषध में
 प्रयुक्त होती है ।
 पररुल्य—(हि. पुं., स्त्री.) प्रलय, सृष्टि का
 नाश या अन्त ।
 पररुला—(हि. वि.) दूसरी ओर का, उधर का;
 पररुले सिरे का—बहुत अच्छा या अधिक ।
 पररुलं—(हि. पुं.) देखें 'प्रलय' ।
 पररुलोक—(सं. पुं.) लोकान्तर, दूसरा लोक,
 स्वर्ग, वह लोक जिसमें मृत्यु के बाद
 गति होती है; -गत—(वि.) मृत्यु को प्राप्त,
 मरा हुआ; -गमन—(पुं.) मृत्यु, मरण;
 -प्राप्ति—(स्त्री.) मरण; -वासो—(पुं.)
 मृत्यु को प्राप्त; (मुहा.)—सिधारना—मरना ।
 पररुवत्—(सं. वि.) पराधीन, परवश ।
 पररुवर—(हि. पुं.) परवल, आँख का एक रोग ।
 पररुवल—(हि. पुं.) एक प्रकार की लता जो
 टट्टियों पर चढ़ाई जाती और जिसके
 फलों की तरकारी बनती है ।
 पररुवश, पररुवश्य—(हि. वि.) पराधीन, जो
 दूसरे के वश में हो; -ता—(स्त्री.)
 पराधीनता ।
 पररुवस्ती—(हि. स्त्री.) पालन-पोषण ।
 पररुवा—(हि. स्त्री.) किसी पक्ष की पहली
 तिथि, एक प्रकार की घास ।
 पररुवाई—(हि. स्त्री.) देखें 'परवा' ।
 पररुवाच्य—(सं. वि.) जिसको दूसरे बुरा
 कहते हों, निन्दित ।
 पररुवार्ण—(सं. पुं.) मयूर, मोर ।
 पररुवाद—(सं. पुं.) प्रवाद, अपवाद, दूसरे
 की निन्दा ।
 पररुवान्—(हि. पुं.) सीमा, अवधि, प्रमाण,
 यथार्थ वात ।
 पररुवानना—(हि. क्रि. स.) उचित समझना ।
 पररुवाना—(फा. पुं.) लिखित आज्ञापत्र,
 हुक्मनामा, फरमान, आदेश-पत्र ।
 पररुवाया—(हि. पुं.) चारपाई के पायों के
 नीचे रखने का काठ आदि का टुकड़ा ।
 पररुवाल—(हि. पुं.) देखें 'प्रवाल', मूंगा ।

पररुवास—(हि. पुं.) आच्छादन, ढपना ।
 पररुवासी—(सं. वि.) दूसरे के घर में बसनेवाला ।
 पररुवाह—(हि. पुं.) देखें "प्रवाह", वहाने
 का काम, व्यग्रता, चिन्ता, भरोसा, ध्यान ।
 पररुवी—(हि. स्त्री.) पूर्व काल ।
 पररुवीन—(हि. वि.) देखें 'प्रवीण' ।
 पररुवेख—(हि. पुं.) चन्द्रमा के चारों ओर
 का प्रमामण्डल जो हलकी बदली में
 दिखाई पड़ता है ।
 पररुवेश—(हि. पुं.) देखें 'प्रवेश' ।
 पररुवेश्म—(सं. पुं.) वैकुण्ठ, स्वर्ग ।
 पररुव्रत—(सं. पुं.) धृतराष्ट्र का एक नाम ।
 पररुवश—(सं. पुं.) पारस पत्थर, स्पर्शमणि;
 (पुं.) स्पर्श, छूना ।
 पररुशाला—(सं. पुं.) परगृह, दूसरे का घर ।
 पररुशासन—(सं. पुं.) दूसरों पर आदेश ।
 पररुशु—(सं. पुं.) कुठार, कुल्हाड़ी, तबर,
 फरसा, प्राचीन काल के सैनिकों का
 एक प्रधान अस्त्र; -धर—(पुं.) गणेश,
 पररुशुराम; (वि.) पररुशु धारण करने-
 वाला; -राम—(पुं.) जमदग्नि ऋषि
 के पुत्र, मृगुपति, (इन्होंने पृथ्वी को
 इक्कीस बार निःक्षत्रिय किया था);
 -वन—(पुं.) एक नरक का नाम ।
 पररुश्वघ—(सं. पुं.) कुठार, कुल्हाड़ी ।
 पररुसंग—(हि. पुं.) देखें 'प्रसंग' ।
 पररुसंबंध—(सं. पुं.) दूसरे का संबंध ।
 पररुसन—(हि. पुं.) छूने का भाव या काम,
 स्पर्श; (वि.) प्रसन्न ।
 पररुसना—(हि. क्रि. स.) स्पर्श करना, छूना,
 छुलाना, किसी के सामने भोजन के पदार्थ
 रखना, परोसना ।
 पररुसन्न—(हि. वि.) देखें 'प्रसन्न' ।
 पररुसपखान—(हि. पुं.) स्पर्शमणि, पारस
 पत्थर ।
 पररुसवर्ण—(सं. पुं.) (व्याकरण में) उत्तर-
 वर्ती वर्ण के समान वर्ण ।
 पररुसा—(हि. पुं.) कुल्हाड़ी, कुठार, फरसा,
 देखें 'परोसा', पत्तल ।
 पररुसाद—(हि. पुं.) देखें 'प्रसाद' ।
 पररुसाना—(हि. क्रि. स.) स्पर्श कराना,
 छुलाना, भोजन बँटवाना ।
 पररुसाल—(हि. अव्य.) पिछले वर्ष, अगले
 साल ।
 पररुसिद्ध—(हि. वि.) देखें 'प्रसिद्ध' ।
 पररुसिया—(हि. स्त्री.) हूसिया ।
 पररुसीया—(हि. पुं.) एक वृक्ष जिसकी
 लकड़ी काली और पुष्ट होती है ।
 पररुसु—(हि. पुं.) परशु ।
 पररुसूक्ष्म—(सं. पुं.) एक सूक्ष्म परिमाण

जो आठ परमाणुओं के बराबर माना
 जाता है ।
 पररुसेद—(हि. पुं.) देखें 'प्रसेद' ।
 पररुसेवा—(सं. स्त्री.) दूसरे की सेवा ।
 पररुसों—(हि. अव्य.) वीते हुए कल से एक
 दिन पहले, आनवाले कल से एक दिन
 आगे ।
 पररुसोत्तम—(हि. पुं.) देखें 'पुरुषोत्तम' ।
 पररुसोर—(हि. पुं.) एक प्रकार का अग-
 हनिया घान ।
 पररुसोर्हां—(हि. वि.) स्पर्श करनेवाला ।
 पररुस्त्री—(सं. स्त्री.) दूसरे की स्त्री, पर-
 कीया नारी; -गमन—(पुं.) पराई स्त्री
 के साथ सम्भोग ।
 पररुस्पर—(सं. अव्य.) एक दूसरे के साथ,
 आपस में ।
 पररुस्परानुमति—(सं. स्त्री.) एक-दूसरे की
 अनुमति ।
 पररुस्परोपमा—(सं. स्त्री.) एक अर्थालंकार
 जिसमें उपमान की उपमा उपमेय से
 और उपमेय की उपमा उपमान से दी
 जाती है, उपमेयोपमा ।
 पररुस्वच—(सं. पुं.) परस्वच, कुठार, कुल्हाड़ी ।
 पररुहरना—(हि. क्रि. स.) त्यागना, छोड़ना ।
 पररुहार—(हि. पुं.) देखें 'प्रहार', परिहार ।
 पररुहारी—(हि. पुं.) जगन्नाथ जी के पुजारी
 जो मन्दिर में ही रहते हैं ।
 पररुहित—(सं. पुं.) दूसरे का कल्याण ।
 पररुहेज—(फा. पुं.) वाजित आहार-विहार से
 बचना; -गार—(वि.) परहेज करने-
 वाला; -गारी—(स्त्री.) परहेज ।
 पररुहेलना—(हि. क्रि. स.) तिरस्कार या
 निरादर करना ।
 पररुांग—(सं. पुं.) शरीर का पिछला भाग ।
 पररुांगद—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 पररुांगव—(सं. पुं.) समुद्र ।
 पररुाँचा—(हि. पुं.) पटरी, पाटन, टाँड़ ।
 पररुाँठा—(हि. पुं.) तवे पर घी लगाकर
 सेंकी हुई चपाती, पोतला ।
 पररुाँतक—(सं. पुं.) सर्वनाशक महादेव ।
 पररुाँतकाल—(सं. पुं.) मृत्यु का समय ।
 पररुाँतिका—(सं. स्त्री.) मात्रा-वृत्त का एक
 भेद ।
 पररुा—(सं. उप.) प्राधान्य, गति, विक्रम, वच,
 अनादर आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है ।
 पररुा—(सं. स्त्री.) उपनिषद् विद्या, ब्रह्म-
 विद्या, एक प्रकार का सामयान, गायत्री
 चार प्रकार की वाणियों में से पहली वाणी
 जो नादरवृत्त और मूलाधार से निकलती
 हुई मानी जाती है; (वि. स्त्री.) श्रेष्ठ,

उत्तम; (हि.पुं.) पंक्ति, श्रेणी, रेशम उकेलने का एक लकड़ी का औजार।
पराइ, पराई—(हि.वि.स्त्री.) दूसरे की।
पराकाष्ठा, पराकोटि—(सं. स्त्री.) चरम सीमा, हृद, गायत्री का एक भेद, ब्रह्मा का आधा आयुष्य।

पराक्रम—(सं.पुं.) शक्ति, बल, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, उद्योग, विष्णु; -ञ्—(पुं.) शत्रु के बल को जाननेवाला।

पराक्रमी—(हि. वि.) वीर, पुरुषार्थी, उद्यमी, उद्योगी, बलवान।

पराग—(सं.पुं.) पुष्परज, वह रज जो फूलों के बीच में केशरों पर जमी रहती है, धूल, रज, उपराग, विख्याति, कपूर का चूर्ण, स्वच्छन्द गमन, एक प्रकार का सुगन्धित चूर्ण जिसको शरीर पर पोतकर शृंगार किया जाता है; -केशर—(पुं.) फूलों के मध्य के वे लंबे तथा पतले सूत जिनकी नोक पर पराग लगा रहता है।

परागति—(सं.पुं.) शिव, महादेव; (स्त्री.) गायत्री।

परागता—(हि. क्रि. अ.) अनुरक्त होना।
परागम—(सं.पुं.) शत्रु का आगमन या आक्रमण।

पराङ्मुख—(सं. वि.) विमुख, प्रतिकूल, विरुद्ध, निवृत्त, उदासीन, ध्यान न देनेवाला; -ता—(स्त्री.) प्रतिकूलता।

पराचित—(सं.वि.) दूसरे के द्वारा पाला-पोसा हुआ।

पराचीन—(सं. वि.) पराङ्मुख, विमुख।
पराजय—(सं. स्त्री.) पराभव, हार।

पराजिका—(हि. स्त्री.) परज राग की रागिनी।

पराजित—(सं. वि.) पराभूत, विजित, हारा हुआ।

पराजिष्णु—(सं.वि.) विजयी, जीतनेवाला।
पराण—(सं.पुं.) प्राण।

परातंस—(सं.वि.) धक्का देकर हटाया हुआ।
परात—(हि. स्त्री.) थाली के आकार का बड़ा पात्र, बड़ी थाली, थाल।

परातर—(सं. वि.) बहुत दूर।
परात्पर—(सं.पुं.) परमात्मा, विष्णु।

परात्परेश्वर—(सं. वि.) सर्वश्रेष्ठ, सब से उत्तम; (पुं.) परमात्मा।

परात्मा—(सं.पुं.) परब्रह्म, परमात्मा, दूसरे की आत्मा।

पराधि—(सं.पुं.) दूसरे का दुःख, दूसरे की मानसिक व्यथा।

पराधीन—(सं. वि.) परवश, जो दूसरे के

अधीन हो, परतंत्र; -ता—(स्त्री.) परतन्त्रता, परवशता।

पराण—(हि.पुं.) देखें 'प्राण'।
पराना—(हि. क्रि. अ.) भागना, पलायन करना।

परान्न—(सं.पुं.) दूसरे का दिया हुआ भोजन; -भोजी—(वि.) दूसरे का अन्न खानेवाला।

परापर—(सं. वि.) पर और अपर।
पराभव—(सं.पुं.) पराजय, हार, तिरस्कार, विनाश, मानहानि।

पराभूत—(सं.वि.) पराजित, हारा हुआ, नष्ट, तिरस्कृत।

पराभूति—(सं. स्त्री.) पराभव, हार।
परामर्श—(सं.पुं.) विचारयुक्त निर्णय, अनुमान, मन्त्रणा, स्मृति, याद।

परामर्शन—(सं.पुं.) स्मरण, चिन्तन, विचार करना, मन्त्रणा करना।

परामर्शी—(सं. वि.) निर्देशक, परामर्श देनेवाला।

परामर्ष—(सं.पुं.) देखें 'परामर्श'।
पराभूत—(सं.पुं.) मुक्ति, मोक्ष।

पराभूष्ट—(सं. वि.) निर्णय किया हुआ, विचारा हुआ, पकड़कर खींचा हुआ।

परायण—(सं. वि.) प्रवृत्त, तत्पर, लगा हुआ; (पुं.) विष्णु, आश्रय।

परायति—(सं. स्त्री.) उत्तर काल; (वि.) पराधीन।

परायत्त—(सं. वि.) पराधीन, परवश।
पराया—(हि. वि.) (स्त्री. परायी) अन्य का, दूसरे का, जो अपना न हो, जो आत्मीय न हो।

परायु—(सं.पुं.) ब्रह्मा।
पराय—(हि. वि.) दूसरे का, पराया।

परायध—(हि.पुं.) देखें 'पराध'।
परायक—(सं.पुं.) प्रस्तर, पत्थर।

परायर्थ—(सं. वि.) जिसका उद्देश्य स्वार्थ-प्रधान न हो, दूसरे के निमित्त का; (पुं.) दूसरे का उपकार।

परायर्थ—(सं.पुं.) एक शंख की संख्या, ब्रह्म की आयु का आधा काल, कुकुम, केशर, खस, चन्दन।

परावत—(सं.पुं.) पररूपक, फालसा।
परावन—(हि.पुं.) पलायन, एक साथ अनेक मनुष्यों का भागना, भगदड़, पर्व, पुण्य-काल।

परावर—(सं.वि.) सर्वश्रेष्ठ, अगला-पिछला।
परावरा—(सं.स्त्री.) एक प्रकार की विद्या।

परावर्त—(सं.पुं.) विनिमय, अदल-बदल, पलटाव।

परावर्तन—(सं.पुं.) पलटना, लौटना।
परावर्तित—(सं. वि.) पलटाया हुआ, फेंरा हुआ।

परावसु—(सं.पुं.) एक गन्धर्व का नाम।
परावह—(सं.पुं.) वायु के सात भेदों में से एक।

परावा—(हि. वि.) देखें 'पराया'।
परावाक—(सं.पुं.) तिरस्कार का वचन।

परावृत्त—(सं.वि.) फरा हुआ, बदला हुआ।
परावृत्ति—(सं. स्त्री.) पलटने या पलटाने की क्रिया या भाव।

पराशर—(सं.पुं.) एक सर्प का नाम, एक गोत्रकार, एक ऋषि जो वसिष्ठ और शक्ति के पौत्र थे, एक प्रसिद्ध स्मृतिकार का नाम।

पराश्रय—(सं. वि.) वह जो दूसरे के आश्रय में हो, अन्याश्रित; (पुं.) दूसरे का सहारा।

पराश्रित—(सं. वि.) पराधीन, दूसरे का आश्रित।

परास—(सं.पुं.) देखें 'पलाश'।
परास्तन—(सं.पुं.) मारण, वध, उत्तम आसन।

परासी—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम।
परास्त—(सं. वि.) पराजित, हारा हुआ, ध्वस्त, जीता हुआ।

पराह—(सं.पुं.) अन्य दिन, दूसरा दिन।
पराह्न—(सं.पुं.) अपराह्न, दोपहर के बाद का समय, तीसरा पहर।

परि—(सं. उप.) इसके शब्द में जुड़ने से 'सर्वोत्तम, अच्छी तरह, अतिशय, त्याग, नियम' आदि अर्थों का समावेश होता है।

परिकंप—(सं.पुं.) भय, डर।
परिक—(हि. स्त्री.) खोटी चाँदी।

परिकथा—(सं. स्त्री.) वह कथा जिसके अन्त-गंत दूसरी कथा हो, धर्म-विषयक कहानी।

परिकर—(सं.पुं.) पर्यंक, पलंग, परिवार, तैयारी, समूह, विवेक, ज्ञान, सहायक, अनुचरवर्ग, एक अलंकार जिसमें अभिप्रायपूर्ण विशेषणों के साथ विशेष्य का प्रयोग होता है।

परिकरमा—(हि. स्त्री.) देखें 'परिक्रमा'।
परिकरान्कुर—(सं.पुं.) एक अर्थालंकार जिसमें किसी शब्द का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्य से किया जाता है।

परिकर्तिका—(सं. स्त्री.) काटने या चुमने की तरह की पीड़ा।

परिकर्षण—(सं.पुं.) खींचकर दूसरे स्थान में ले जाना।

परिकल्पन—(सं.पुं.) वंचना, धोखा।
परिकल्प—(सं.पुं.) स्थिर निश्चय, वनावटी निदश, रचना।

परिकल्प—(सं.पुं.) स्थिर निश्चय, वनावटी निदश, रचना।

परिकल्पन—(सं. पुं.) चिन्तन, मनन, मन में गढ़ना ।
 परिकल्पित—(सं. वि.) स्थिर किया हुआ, ठहराया हुआ, मन में सोचकर बनाया हुआ ।
 परिकीर्ण—(सं. वि.) विस्तृत, फैला हुआ ।
 परिकीर्तन—(सं. पुं.) गुणों का विस्तृत वर्णन, अधिक प्रशंसा ।
 परिकीर्तित—(सं. वि.) प्रशंसित, श्लाघ्य, कहा हुआ, गाया हुआ ।
 परिकूट—(सं. पुं.) नगर या गढ़ के फाटक पर की खाई ।
 परिकूश—(सं. वि.) अति दुर्बल ।
 परिकेश—(सं. पुं.) बाल का अगला भाग ।
 परिक्रम, परिक्रमण—(सं. पुं.) प्रदक्षिणा, परिक्रमा, चारों ओर घूमना या चक्कर देना ।
 परिक्रमा—(सं. स्त्री.) चारों ओर घूमना, चक्कर देना, किसी तीर्थ स्थान या देव-मन्दिर के चारों ओर घूमने के लिये बना हुआ मार्ग ।
 परिक्रय—(सं. पुं.) मोल लेना ।
 परिक्रिया—(सं. स्त्री.) खाई आदि से घेरने की क्रिया ।
 परिक्लेद—(सं. पुं.) आर्द्रता, गीलापन ।
 परिक्लेश—(सं. पुं.) अत्यन्त दुःख ।
 परिक्षत—(सं. वि.) नष्ट-भ्रष्ट ।
 परिक्षय—(सं. पुं.) ध्वंस, नाश, पतन ।
 परिक्षा—(सं. स्त्री.) गीली मिट्टी, कीचड़; (हिं. स्त्री.) देखें 'परीक्षा' ।
 परिक्षाम—(सं. वि.) अत्यन्त दुर्बल ।
 परिक्षालन—(सं. पुं.) धोने की क्रिया, धोना ।
 परिक्षिप्त—(सं. वि.) खाई आदि से घेरा हुआ ।
 परिक्षेप—(सं. पुं.) निक्षेप, चारों ओर घूमना ।
 परिक्षेपक—(सं. वि.) फेरा लगानेवाला, घूमनेवाला ।
 परिखन—(हिं. वि.) रक्षक, रखवाली करनेवाला ।
 परिखना—(हिं. क्रि. स.) प्रतीक्षा करना, आसरा देखना, परीक्षा करना, जाँचना ।
 परिखा—(सं. स्त्री.) किले को घेरने की खाई ।
 परिखात—(सं. पुं.) परिखा, खाई ।
 परिखान—(हिं. स्त्री.) पहिये की लीक या लकीर ।
 परिखेद—(सं. पुं.) अत्यन्त दुःख, परिश्रम ।
 परिख्यात—(सं. वि.) विख्यात, प्रसिद्ध ।
 परिगण—(सं. पुं.) गृह, घर ।
 परिगणन, परिगणना—(सं. पुं., स्त्री.) माली भाँति गणना करना, विभाग करना, गिनती करना ।

परिगणनीय—(सं. वि.) गिने जाने योग्य ।
 परिगणित—(सं. वि.) गिना हुआ ।
 परिगण्य—(सं. वि.) परिगणनीय, गिनने योग्य ।
 परिगत—(सं. वि.) गत, जाना हुआ, प्राप्त, मिला हुआ, विस्मृत, भूला हुआ, बीता हुआ, घिरा हुआ, मरा हुआ ।
 परिगदित—(सं. वि.) कहा हुआ ।
 परिगवित—(सं. वि.) बड़ा धमंडी, बहुत गर्वीला ।
 परिगर्हण—(सं. पुं.) घोर निन्दा ।
 परिगर्ह—(हिं. पुं.) कुटुम्बी, आश्रित जन ।
 परिगहन—(सं. पुं.) घोर अन्वकार ।
 परिगीति—(सं. स्त्री.) एक छन्द का नाम ।
 परिगुठित—(सं. वि.) छिपा हुआ, ढपा हुआ ।
 परिगूढ़—(सं. वि.) अत्यन्त गुप्त ।
 परिगृहीत—(सं. वि.) स्वीकृत, ग्रहण किया हुआ, मिला हुआ ।
 परिगृह्या—(सं. स्त्री.) धर्मपत्नी, विवाहिता स्त्री ।
 परिग्रह—(सं. पुं.) दान लेना, ग्रहण करना, सेना का पिछला भाग, अनुग्रह, कृपा, साधन, विष्णु, हाथ, शाप, शपथ, वेतन, पत्नी, भार्या, परिजन, परिवार, मूल, कन्द, अंगीकार, धन आदि का संग्रह, आदरपूर्वक कोई वस्तु लेना ।
 परिग्रहण—(सं. पुं.) पूर्ण रूप से ग्रहण करना, वस्त्र पहिनना ।
 परिध—(सं. पुं.) अर्गला, मुद्गर, वरछा, माला, कलसा, घड़ा, गोपुर, घर, प्रति-वन्ध, पर्वत, तीर, मूढगर्म, चन्द्रमा, जल, वज्र, सूर्य, स्थान, सूर्य के सामनेवाला बादल, ज्योतिष का एक योग, घोड़ा ।
 परिधात—(सं. पुं.) हनन, हत्या, मार डालना ।
 परिधाती—(सं. वि.) हत्या करनेवाला ।
 परिधोष—(सं. पुं.) बादल की गरज, शब्द ।
 परिचना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'परचना' ।
 परिचपल—(सं. वि.) जो हर समय घूमता-फिरता या अस्थिर हो ।
 परिचय—(सं. पुं.) विशेष रूप से जानना, जानकारी, प्रमाण, लक्षण, अभ्यास, किसी व्यक्ति के नाम, काम, गुण आदि का ज्ञान, जान-पहचान ।
 परिचर—(सं. पुं.) रोगी की सेवा-शुभूषा करनेवाला, अनुचर, मृत्यु, दहलुआ ।
 परिचरजा—(हिं. स्त्री.) देखें 'परिचर्या' ।
 परिचरण—(सं. पुं.) सेवा, दहल ।
 परिचरणीय—(सं. वि.) सेवा करने योग्य ।
 परिचरिता—(सं. वि.) सेवा-दहल करनेवाला ।
 परिचरी—(सं. स्त्री.) दासी, दहलकी ।
 परिचर्या—(सं. स्त्री.) सेवा, शुभूषा,

रोगी की सेवा ।
 परिचायक—(सं. पुं.) जान-पहचान करानेवाला, सूचित करनेवाला ।
 परिचार—(सं. पुं.) सेवा-दहल, घूमने-फिरने का स्थान ।
 परिचारक—(सं. पुं.) मृत्यु, दास, फिकर, चेट, रोगी की सेवा-दहल करनेवाला, देव-मन्दिर आदि का प्रयत्नकर्ता ।
 परिचारण—(सं. पुं.) सेवा, दहल, निन्दमत, सहवास करना, संग करना ।
 परिचारना—(हिं. क्रि. अ.) सेवा-दहल करना ।
 परिचारिका—(सं. स्त्री.) दासी ।
 परिचारो—(हिं. वि.) सेवक ।
 परिचार्य—(सं. वि.) सेवा करने योग्य ।
 परिचालक—(सं. पुं.) संचालक, चलाने-वाला, गति देनेवाला, हिलानेवाला ।
 परिचालन—(सं. पुं.) गति देना, हिलाना-डुलाना, कार्यक्रम चलाना, चलने के लिये प्रेरित करना ।
 परिचालित—(सं. वि.) चलाया हुआ, परिचालन किया हुआ, हिलाया हुआ ।
 परिचित—(सं. वि.) जिसका परिचय हो, जान-पहचान का, अमिश्र, मिलने-जुलने-वाला, सूचित, इकट्ठा किया हुआ ।
 परिचिति—(सं. स्त्री.) अमिश्रता, जानकारी ।
 परिचुवन—(सं. पुं.) प्रेम का गाढ़ चुवन ।
 परिचो—(हिं. पुं.) परिचय, जान ।
 परिच्छद—(सं. पुं.) परिवार, परिजन, कुटुम्ब, वेश, पहिनावा, किसी पदार्थ को ढापने की वस्तु, अस्वाध, सामग्री, राज-चिह्न, राजा के साथ रहनेवाला नोकर ।
 परिच्छन्न—(सं. वि.) परिच्छद से सज्जित, राजद्वय से मंडित, वस्त्रों से सुनोमित, छिपाया हुआ, ढपा हुआ, राजा हुआ ।
 परिच्छा—(हिं. स्त्री.) देखें 'परीक्षा' ।
 परिच्छित—(सं. स्त्री.) परिच्छेद, सोना, हथ ।
 परिच्छिन्न—(सं. वि.) मवांशित, विगत, सीमायुक्त ।
 परिच्छेद—(सं. पुं.) विभाजन, काटकर विभाग करना, टुकड़े करना, प्रश्न या पुस्तक का ऐसा गण्ट जिसमें स्वतन्त्र विषय का वर्णन हो, अन्वय, प्रत्यय ।
 परिच्छेज—(सं. वि.) विनाश, बाँटने योग्य ।
 परिच्छृति—(सं. स्त्री.) पतन, गिराव ।
 परिछन—(हिं. पुं.) देखें 'परछन' ।
 परिछाहीं—(हिं. स्त्री.) देखें 'परछाहीं' ।
 परिछित—(हिं. वि.) देखें 'परिच्छित' ।
 परिछर—(हिं. पुं.) देखें 'परिछर' ।
 परिछटन—(हिं. पुं.) देखें 'परिछटन' ।
 परिछन—(सं. पुं.) परिवार, आश्रित, धर्म,

सर्वदा साथ रहनेवाला सेवक, अनुचर-वर्ग; -ता-(स्त्री.) अधीनता।
 परिजाड्य-(सं. पुं.) जड़ता, मूर्खता।
 परिजात-(सं. वि.) जन्मा हुआ, उत्पन्न।
 परिज्ञप्ति-(सं. स्त्री.) जान-पहचान।
 परिज्ञा-(सं. स्त्री.) सूक्ष्म ज्ञान।
 परिज्ञात-(सं. वि.) विशेष रूप से जाना हुआ।
 परिज्ञाता-(हिं.पुं.) ज्ञानी, बुद्धिमान्।
 परिज्ञान-(सं. पुं.) किसी वस्तु का सम्यक् ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान।
 परिज्ञेय-(सं. वि.) मली-मांति जानने योग्य।
 परिडौन-(सं. पुं.) किसी पक्षी का आकाश में गोलाई में उड़ना।
 परिणत-(सं. वि.) पका हुआ, पचा हुआ, रूप बदला हुआ, प्रौढ़, पुष्ट, अवनत।
 परिणति-(सं. स्त्री.) अवनति, झुकाव, परिपाक, रूपांतर, प्रौढ़ता, पुष्टि, पक्वता।
 परिणद्ध-(सं. वि.) बँधा हुआ, लपेटा हुआ, फला हुआ, बढ़ा हुआ।
 परिणय-(सं. पुं.) विवाह, व्याह।
 परिणयन-(सं. पुं.) विवाह करने की क्रिया।
 परिणाम-(सं. पुं.) विकार, प्रकृति का अन्यथाभाव, एक अर्थालंकार जिसमें एक वर्णनीय विषय में अन्य किसी वस्तु का आरोप किया जाता है और वह आरोप्यमान वस्तु अभिन्न रूप से प्रकृत विषय का उपयोगी होती है, रूपान्तरण, बदलने का भाव या कार्य, कारण का फल, परिपुष्टि, विकास, समाप्त होना, बीतना; योग के अनुसार एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त करना, सांख्य के अनुसार स्वाभाविक रूप से एक अवस्था त्यागकर दूसरी अवस्था को प्राप्त करना; -दर्शी-(वि.) भविष्य का विचार करके काम करनेवाला, सोच-विचारकर काम करनेवाला, सूक्ष्मदर्शी; -दृष्टि-(स्त्री.) मले-बुरे परिणाम की ओर दृष्टि; -वाद-(पुं.) वह सिद्धान्त जिसके अनुसार संसार की उत्पत्ति, नाश तथा अन्योन्याश्रित विपर्यय मान जाते हैं; -शूल-(पुं.) भोजन पचने के समय पेट में उत्पन्न होनेवाला शूल।
 परिणामी-(सं. वि.) जो परिणाम के अनुसार हो, बदलनेवाला।
 परिणायक-(सं. पुं.) सेनापति, नेता, पति।
 परिणाह-(सं. पुं.) विस्तार, फैलाव, चौड़ाई।
 परिणोत-(सं. वि.) विवाहित, जिसका व्याह हो गया हो, समाप्त, पूर्ण।
 परिणोता-(सं. स्त्री.) भार्या।

परिणेता-(हिं. पुं.) स्वामी, पति।
 रितः-(सं. अव्य.) चारों ओर, पूर्ण रूप से, सब प्रकार से।
 परितच्छ-(हिं. पुं.) देखें 'प्रत्यक्ष'।
 परितप्त-(सं. वि.) क्लेश अनुभव करता हुआ, अत्यन्त गरम, तपा हुआ, जलता हुआ।
 परितप्ति-(सं. स्त्री.) जलन, दाह, संताप।
 परितर्पण-(सं. पुं.) पूर्ण तृप्ति।
 परिताप-(सं. पुं.) दुःख, संताप, मानसिक क्लेश, पछतावा, भय, डर, अत्यधिक गरमी, कँपकँपी, एक नरक का नाम।
 परितापी-(हिं. वि.) दुःखित, व्यथित, जिसको परिताप हो, पीड़ा देनेवाला।
 परितिवक्त-(सं. वि.) बहुत कड़वा, बहुत तीता; (पुं.) नीम का वृक्ष।
 परितुष्ट-(सं. वि.) अच्छी तरह सन्तुष्ट, प्रसन्न।
 परितुष्टि-(सं. स्त्री.) सन्तोष, प्रसन्नता।
 परितृप्त-(सं. वि.) अच्छी तरह सन्तुष्ट, अचाया हुआ।
 परितोष-(सं. पुं.) तृप्ति, सन्तोष, प्रसन्नता।
 परितोषक-(सं. वि.) प्रसन्न करनेवाला।
 परितोषण-(सं. पुं.) सन्तोष, तुष्टि।
 परितोषी-(हिं. वि.) सन्तोषी।
 परितोस-(हिं. पुं.) देखें 'परितोष'।
 परित्यक्त-(सं. वि.) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ।
 परित्याग-(सं. पुं.) त्यागने का भाव, अलग कर देना, छोड़ना।
 परित्यागी-(सं. वि.) त्याग करनेवाला, छोड़नेवाला।
 परित्याजन-(सं. पुं.) परित्याग, छोड़ना।
 परित्याज्य-(सं. वि.) परित्याग के योग्य।
 परित्रस्त-(सं. वि.) भयभीत, डरा हुआ।
 परित्राण-(सं. पुं.) रक्षा, आत्मरक्षा, बचाव।
 परित्रात-(सं. वि.) जिसकी रक्षा हुई हो।
 परित्राता-(सं. पुं.) बचानेवाला, रक्षा करनेवाला।
 परिदर-(सं. पुं.) दाँत का एक रोग।
 परिदर्शन-(सं. पुं.) अवलोकन, देखना।
 परिदष्ट-(सं. वि.) काटकर टुकड़े-टुकड़े किया हुआ।
 परिदान-(सं. पुं.) वापस करना, लौटा देना।
 परिदाय-(सं. पुं.) सुगन्धि।
 परिदाह-(सं. पुं.) शोक, सन्ताप।
 परिदीन-(सं. वि.) अत्यन्त खिन्न या उदास।
 परिदेवक-(सं. पुं.) विलाप करनेवाला।
 परिध-(हिं. पुं.) देखें 'परिधि'।
 परिधन-(हिं. पुं.) नीचे पहिने का वस्त्र, धोती आदि।
 परिधान-(सं. पुं.) पहिने का वस्त्र,

शरीर पर कपड़ा लपेटना, कपड़ा पहिनेना।
 परिधान-(सं. पुं.) पहिने की क्रिया।
 परिधाय-(सं. पुं.) परिधान, वस्त्र, नितंब, चूतड़।
 परिधायक-(सं. पुं.) ढाँपने या लपेटनेवाला।
 परिधि-(सं. पुं.) रेखागणित में वह रेखा जो वृत्त को बनाती है, सूर्य, चन्द्र आदि के चारों ओर का प्रभामंडल, घेरा, वाड़ा, परिक्रमा का मार्ग, कक्षा, वस्त्र।
 परिधीर-(सं. वि.) अत्यन्त गम्भीर।
 परिधूपित-(सं. वि.) धूप द्वारा सुवासित।
 परिधेय-(सं. वि.) पहिने योग्य; (पुं.) कपड़ा, पहिने का वस्त्र।
 परिध्वंस-(सं. पुं.) विनाश, नाश।
 परिनय-(हिं. पुं.) देखें 'परिणय'।
 परिनिर्वृत्त-(सं. वि.) जिसे पूर्ण रूप से निर्वाण प्राप्त हुआ हो।
 परिनिर्वृत्ति-(सं. स्त्री.) मुक्ति, मोक्ष।
 परिनिश्चय-(सं. पुं.) स्थिर निश्चय।
 परिनिष्ठा-(सं. स्त्री.) पूर्णता, समाप्ति।
 परिण्यास-(सं. पुं.) काव्य के चरणों में वह स्थान जहाँ इसका एक अर्थ पूरा होता हो, नाटक में प्रधान कथानक की मूलभूत घटना की सूचना संकेत द्वारा किया जाना।
 परिपंच-(हिं. पुं.) देखें 'प्रपंच'।
 परिपंची-(हिं. पुं.) शत्रु, प्रपंची व्यक्ति।
 परिपक्व-(सं. वि.) विकसित, प्रौढ़, अच्छी तरह से पका हुआ, बहुदर्शी, अनुभवी, निपुण, प्रवीण, जो अच्छी तरह पच गया हो।
 परिपक्वता-(सं. स्त्री.) परिपक्व होने का भाव, बहुदर्शिता।
 परिपद-(सं. पुं.) जाल, फन्दा।
 परिपवन-(सं. पुं.) सूप, चलनी।
 परिपाक-(सं. पुं.) पकना या पकाया जाना, पचन का भाव, बहुदर्शिता, निपुणता, कुशलता, कर्म का फल, परिणाम, प्रौढ़ता, पूर्णता।
 परिपाचन-(सं. पुं.) अच्छी तरह से पच जाना।
 परिपाटल-(सं. वि.) पीलापन लिये लाल रंग का।
 परिपाटी-(सं. स्त्री.) अनुक्रम, श्रेणी, प्रणाली, ढंग, रीति, पद्धति, चाल, अंकगणित।
 परिपाडर्वचर-(सं. वि.) वगल में चलने या जानेवाला।
 परिपार-(हिं. पुं.) मर्यादा।
 परिपालक-(सं. वि.) पालन करनेवाला।
 परिपालन-(सं. पुं.) परिरक्षण, देख-रेख, रखवाली, रक्षा, बचाव, पालन-पोषण।

परिपिच्छ—(सं. पुं.) मोर के पंखों का बना हुआ प्राचीन काल का एक आमूपण ।
 परिपिष्ट—(सं. वि.) दलित, कुचला हुआ ।
 परिपीडन—(सं. पुं.) बहुत कष्ट देने या हानि पहुँचाने का कार्य, सताना ।
 परिपीवर—(सं. वि.) बहुत मोटा ।
 परिपुष्ट—(सं. वि.) पूर्ण रूप से पुष्ट, जिसका पालन-पोषण भली भाँति हुआ हो ।
 परिपूत—(सं. वि.) विशुद्ध, अति पवित्र ।
 परिपूरक—(सं. वि.) समृद्ध करनेवाला, धन-धान्य से पूर्ण करनेवाला ।
 परिपूरन—(हिं. वि.) देखें 'परिपूर्ण' ।
 परिपूरित—(सं. वि.) परिपूर्ण, भरा हुआ, समृद्ध किया हुआ ।
 परिपूर्ण—(सं. वि.) सम्पूर्ण, पूरा किया हुआ, परितृप्त, अघाया हुआ ।
 परिपूर्णता—(सं. स्त्री.) सम्पूर्णता ।
 परिपूर्णत्व—(सं. पुं.) परिपूर्णता ।
 परिपूर्ति—(सं. स्त्री.) परिपूर्ण होने की क्रिया, स्थिति या भाव ।
 परिपूच्छक—(सं. पुं.) पूछनेवाला ।
 परिवेल्ब—(सं. वि.) अति सुकुमार ।
 परिपोट—(सं. पुं.) कान का एक रोग ।
 परिपोषण—(सं. पुं.) पालन-पोषण ।
 परिप्रश्न—(सं. पुं.) युक्तायुक्त प्रश्न, जिज्ञासा ।
 परिप्राप्ति—(सं. स्त्री.) लाभ, मिलना ।
 परिप्रेषित—(सं. वि.) भेजा हुआ ।
 परिप्रेष्य—(सं. पुं.) दास, टहलुआ; (वि.) भेजने योग्य ।
 परिप्लव—(सं. वि.) अस्थिर, चंचल, कांपता हुआ, गतियुक्त, चलता हुआ; (पुं.) प्लावन, बाढ़, नाव, अत्याचार ।
 परिप्लुत—(सं. वि.) आर्द्र, भीगा हुआ, प्लावित, डूबा हुआ ।
 परिप्लुता—(सं. स्त्री.) मदिरा ।
 परिप्लुष्ट—(सं. वि.) जला हुआ, भुना हुआ ।
 परिफुल्ल—(सं. वि.) अत्यन्त खिला हुआ, अत्यन्त रोमांचित, प्रफुल्ल ।
 परिवर्ह—(सं. पुं.) देखें परिवर्हण ।
 परिवर्हण—(सं. पुं.) राजा का छत्र, चमर आदि राज-चिह्न ।
 परिव्राषा—(सं. स्त्री.) कष्ट, बाधा, पीड़ा ।
 परिवृंहण—(सं. पुं.) उन्नति, बढ़ती ।
 परिवोध—(सं. पुं.) सम्यक् ज्ञान ।
 परिभंग—(सं. पुं.) टुकड़े-टुकड़े होना ।
 परिभक्ष—(सं. वि.) दूसरे का भाल खाने-वाला ।
 परिभक्षण—(सं. पुं.) सारा या समूचा खा जाना, चट कर जाना ।

परिभव, परिभवम—(सं. पुं.) अनादर, तिरस्कार, पराजय ।
 परिभवो—(हिं. वि.) तिरस्कार करनेवाला ।
 परिभाव—(सं. पुं.) अनादर, तिरस्कार ।
 परिभावन—(सं. स्त्री.) चिंतन, शोच, संयोग, मिलाप, साहित्य में वह रचना-शैली जिससे अधिक कुतूहल या उत्सुकता सूचित या उत्पन्न होती है ।
 परिभावित—(हिं. वि.) चिंतन किया हुआ, तिरस्कृत ।
 परिभाषक—(सं. वि.) निन्दक, निन्दा द्वारा किसी का अपमान करनेवाला ।
 परिभाषण—(सं. पुं.) निन्दा करना, उलहना देना ।
 परिभाषा—(सं. स्त्री.) स्पष्ट या संशय-रहित कथन, किसी शब्द का इस प्रकार अर्थ करना जिससे उसकी अर्थ की विज्ञेपता और व्याप्ति पूर्णरूप से निश्चित हो जाय, किसी शास्त्र, ग्रन्थ आदि की विशिष्ट संज्ञा, ऐसा शब्द जिसका किसी शास्त्र में निर्दिष्ट अर्थ में व्यवहार किया जाता है, शास्त्रकारों की बनाई हुई संज्ञा, लक्षण, सूत्र के छः लक्षणों में से एक, निन्दा ।
 परिभाषित—(सं. वि.) जिसकी परिभाषा की गई हो, अच्छी तरह से व्याख्यात ।
 परिभाषी—(हिं. वि.) बोलनेवाला ।
 परिभुक्त—(सं. वि.) जिसका उपभोग किया गया हो ।
 परिभू—(सं. वि.) जो चारों ओर से आच्छादित हो; (पुं.) परिपालक, ईश्वर ।
 परिभूत—(सं. वि.) अवमानित, तिरस्कार किया हुआ, पराजित, हराया हुआ ।
 परिभूषण—(सं. पुं.) सजाने की क्रिया या भाव ।
 परिभूति—(सं. स्त्री.) निरादर, तिरस्कार ।
 परिभूषित—(सं. वि.) सजाया हुआ, सँवारा हुआ ।
 परिभेद—(सं. पुं.) तलवार, तीर आदि का धाव ।
 परिभेदक—(सं. वि.) गहरा धाव करने-वाला ।
 परिभोयता—(सं. पुं.) दूसरे के धन का उपभोग करनेवाला ।
 परिभोग—(सं. पुं.) उपभोग, स्त्री-प्रसंग, मैथुन ।
 परिभ्रम—(सं. पुं.) भ्रमण, नटपना, भ्रम, भ्रान्ति ।
 परिभ्रमण—(सं. पुं.) पर्यटन, दृष्ट-उत्तर घूमना, चक्कर खाना, परिधि, घेरा ।
 परिभ्रष्ट—(सं. वि.) पतित, गिरा हुआ,

भाग हुआ ।
 परिमंडल—(सं. वि.) वर्तुलाकार; (पुं.) चन्द्रमा के चारों ओर की प्रभा, परिधि घरा ।
 परिमंथर—(सं. वि.) बहुत मंद या धीमा ।
 परिमंद—(सं. वि.) बहुत थका हुआ ।
 परिभर—(सं. पुं.) वायु, हवा ।
 परिभ्रम—(सं. पुं.) परामर्श, विचार ।
 परिभ्रम—(सं. पुं.) ईर्ष्या, डाह, कुदृष्टि ।
 परिमल—(सं. पुं.) उत्तम गन्ध, मैथुन, सहवास, विमर्दन, मलने का काम, कुंकुम आदि का मलना; -ज—(पुं.) मैथुन से प्राप्त सुख ।
 परिमाण—(सं. पुं.) माप, वह मान जो तोल या नापने से जानी जाय ।
 परिमाणक—(सं. पुं.) नापने का कोई यन्त्र ।
 परिमान—(हिं. पुं.) देखें 'परिमाण' ।
 परिमाणण—(सं. पुं.) खोजना, ढूँढना ।
 परिमाणक—(सं. पुं.) घोने या मांजने-वाला, परिशोधक, परिष्कारक ।
 परिमाणन—(सं. पुं.) परिशोधन, मार्जन, एक प्रकार की मिठाई ।
 परिमाणनीय—(सं. वि.) परिमाणन करने योग्य ।
 परिमाजित—(सं. वि.) घोया हुआ, मांजा हुआ, परिमाणन किया हुआ ।
 परिमित—(सं. वि.) अल्प, थोड़ा, कम, यथायं परिमाण का, जिसका परिमाण ज्ञात हो, तोला हुआ, सीमित ।
 परिमिति—(सं. स्त्री.) भूमि मापने का शस्त्र, भूमिति; (हिं. स्त्री.) मर्यादा, प्रतिष्ठा ।
 परिमिलन—(सं. पुं.) अच्छी तरह मिलना ।
 परिमुख—(सं. वि.) मुख के चारों ओर का ।
 परिमुक्त—(सं. वि.) पूर्ण रूप से मुक्त ।
 परिमुह—(सं. वि.) व्याकुल, विचलित ।
 परिमुष्ट—(सं. वि.) पकड़ा हुआ, परामर्श किया हुआ ।
 परिमेय—(सं. वि.) नापने या तोलने योग्य, जिसके नापने या तोलने का प्रयोजन हो, संकुचित, थोड़ा ।
 परिमोक्ष—(सं. पुं.) सम्यक् भुक्ति, पूर्ण मोक्ष, परित्याग, छोड़ना, विष्णु ।
 परिमोक्षण—(सं. पुं.) परित्याग, भक्ति, मोक्ष ।
 परिमोय—(सं. पुं.) स्तेय, चोरी ।
 परिमोयक—(सं. पुं.) चोरी करनेवाला, ठग, चोर ।
 परिमोहन—(सं. पुं.) बलीकरण ।
 परिस्तान—(सं. वि.) कुम्हारा हुआ ।
 परिपंक—(हिं. पुं.) देखें 'पयंक' ।
 परियंत—(हिं. अन्त्य.) देना 'पर्यंत' ।

परियत्त—(सं.वि.) चारों ओर से घिरा हुआ ।
 परियाण—(सं. पुं.) परिभ्रमण ।
 परियात—(सं. वि.) लौटकर आया हुआ ।
 परिरंभ, परिरंभण—(सं. पुं.) आलिंगन ।
 परिरंभना—(हिं.क्रि.सं.) आलिंगन करना ।
 परिरक्षक—(सं. वि.) सब तरह से रक्षा करनेवाला ।
 परिरक्षण—(सं. पुं.) सब प्रकार से रक्षा ।
 परिरक्षणोप—(सं.वि.) रक्षा करने योग्य ।
 परिरक्षा—(सं. स्त्री.) परिपालन ।
 परिरक्षित—(सं.वि.) सब प्रकार से रक्षित ।
 परिरक्षी—(हिं.पुं.वि.) रक्षक, बचानेवाला ।
 परिरथ्या—(सं. स्त्री.) चौड़ी सड़क ।
 परिरोध—(सं. पुं.) अवरोध, रुकावट ।
 परिलंघन—(सं. पुं.) छलांग मारना ।
 परिलिखन—(सं. पुं.) किसी वस्तु को रगड़कर चिकनाना ।
 परिलिखित—(सं.वि.) रेखा से घिरा हुआ ।
 परिलुप्त—(सं. वि.) नष्ट, क्षति-ग्रस्त ।
 परिलेख—(सं. पुं.) कलम या कूची जिससे रेखा या चित्र बनाया जाय, चित्र का स्थूल रूप जिसमें केवल रेखाएँ हों, और रंग न मरा हो, चित्र, उल्लेख, वर्णन ।
 परिलेखन—(सं. पुं.) किसी वस्तु के चारों ओर रेखा खींचना ।
 परिलेखना—(हिं.क्रि.सं.) समझना, विचार करना ।
 परिवचन—(सं. पुं.) घोखा, छल ।
 परिवत्सर—(सं. पुं.) पूरा वर्ष ।
 परिवदन—(सं. पुं.) परिवाद, निन्दा ।
 परिवर्जक—(सं. वि.) त्याग करनेवाला, छोड़नेवाला ।
 परिवर्जन—(सं. पुं.) परित्याग, मारण ।
 परिवर्जनीय—(सं. वि.) त्याग करने योग्य ।
 परिवर्जित—(सं.वि.) परित्यक्त, छोड़ा हुआ ।
 परिवर्त—(सं.पुं.) विनिमय, बदला, घुमाव, चक्कर, युग का अन्त, अदल-बदल, ग्रन्थ का अध्याय, स्वर-साधन की एक प्रणाली ।
 परिवर्तक—(सं.वि.) घुमाने या फिरानेवाला, चक्कर खानेवाला, चक्कर देनेवाला, बदलनेवाला, उलटने-पलटनेवाला ।
 परिवर्तन—(सं. पुं.) दो वस्तुओं का परस्पर अदल-बदल, हेर-फेर, वह जो किसी वस्तु के बदले में लिया या दिया जाय, बदलने की क्रिया, किसी काल या युग की समाप्ति, घुमाव, फेरा ।
 परिवर्तनीय—(सं. वि.) बदलने योग्य ।
 परिवर्तित—(सं. वि.) जिसका आकार या रूप बदल गया हो, बदला हुआ, जो बदले से मिला हो ।

परिवर्ती—(हिं. वि.) परिवर्तनशील, बार-बार बदलनेवाला, बारबार घूमनेवाला, बदलता रहनेवाला ।
 परिवर्तुल—(सं. वि.) पूर्णतः गोल ।
 परिवर्धन—(सं.पुं.) अच्छी तरह वृद्धि होना, किसी वस्तु का संख्या, गुण आदि में बढ़ना ।
 परिवर्धित—(सं.वि.) बढ़ा हुआ, बढ़ाया हुआ ।
 परिवसथ—(सं. पुं.) ग्राम, गाँव ।
 परिवह—(सं. पुं.) सात पवनों में से एक जो प्रातःकाल आकाशगंगा को बहाता हुआ शुक तारा को घुमाता है (पुराण कथा), अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक ।
 परिव्वा—(हिं. स्त्री.) किसी पक्ष की पहिली तिथि, प्रतिपदा, पड़िवा ।
 परिव्वाद—(सं.पुं.) अपवाद, निन्दा, सितार या बीन बजाने की अँगूठी ।
 परिव्वादक—(सं. वि.) निन्दा करनेवाला, बीन बजानेवाला ।
 परिव्वादी—(हिं. वि.) अपवादक, निन्दा करनेवाला ।
 परिव्वाप—(सं. पुं.) परिच्छद, मुण्डन ।
 परिव्वार—(सं. पुं.) परिजनसमूह, कुटुम्ब, तलवार का कोष, म्यान, कोई ढापनेवाली वस्तु, राजा या रईस के अनुचर जो उनके पीछे-पीछे चलते हैं, आश्रित-जन, समान स्वभावं, धर्म वर्ग आदि की वस्तुओं का समुदाय, कुल ।
 परिव्वारण—(सं. पुं.) आवरण, तलवार का म्यान ।
 परिव्वारी—(हिं. पुं.) कुटुम्ब ।
 परिव्वास—(सं.पुं.) प्रवास, परदेश-निवास, घर, सुगन्ध ।
 परिव्वाह—(सं. पुं.) राजा को भेंट देने योग्य वस्तु, पानी के निकलने का मार्ग, मेंड़ आदि के ऊपर से जल का बहना ।
 परिव्विद्ध—(सं. वि.) सब प्रकार से बँधा हुआ, परिवृत, घेरा हुआ ।
 परिव्विहार—(सं. पुं.) स्वच्छन्द विहार ।
 परिव्वीत—(सं.वि.) घिरा हुआ, लपेटा हुआ ।
 परिव्वृत्त—(सं. वि.) ढपा हुआ, छिपा हुआ ।
 परिव्वृत्ति—(सं. स्त्री.) वेष्टन, छिपाने या घेरने की वस्तु ।
 परिव्वृत्त—(सं. वि.) ढपा या घिरा हुआ, समाप्त ।
 परिव्वृत्ति—(सं. स्त्री.) घुमाव, चक्कर, वेष्टन, घिराव, विनिमय, अदला-बदली, समाप्ति, अन्त, किसी शब्द या पद के स्थान पर दूसरा ऐसा शब्द या पद रखना कि अर्थ वही बना रहे, एक अर्थालंकार जिसमें एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु देने के परि-

णामों में असीम अंतर व्यक्त किया जाता है ।
 परिव्बृद्ध—(सं. वि.) अत्यन्त बढ़ा हुआ ।
 परिव्बृद्धि—(सं. स्त्री.) परिवर्धन, बढ़ती ।
 परिव्बृत्ता—(हिं. पुं.) वह मनुष्य जो बड़े भाई से पहिले अपना विवाह कर ले ।
 परिव्बेद—(सं. पुं.) परिज्ञान, पूर्ण ज्ञान ।
 परिव्बेदक—(सं.पुं.) पूर्ण ज्ञान करानेवाला ।
 परिव्बेदन—(सं. पुं.) विवाह, अग्निहोत्र, के लिये अग्निस्थापन, विचरण, घूमना, पूर्ण ज्ञान, लाभ, प्राप्ति, विद्यमानता, बहुत दुःख या कष्ट, वाद-विवाद ।
 परिव्बेश—(सं. पुं.) परिधि, वेष्टन, घेरा ।
 परिव्बेष—(सं. पुं.) परिधि, सूर्य का मंडल, परोसना, चहारदीवारी आदि जो चारों ओर से घेरकर गृह आदि की रक्षा करती है, कोट, परकोटा ।
 परिव्बेषण—(सं. पुं.) परिधि, घेरा, परोसना, सूर्य या चन्द्र के चारों ओर का मण्डल, भोजन-पात्र में अन्न आदि का दान ।
 परिव्बेष्टन—(सं. पुं.) आच्छादन, चारों ओर से घेरना, ढापने या लपेटने की वस्तु, परिधि, घरा ।
 परिव्बेष्टा—(हिं. पुं.) परोसनेवाला ।
 परिव्बेष्टित—(सं.वि.) चारों ओरसे घिरा हुआ ।
 परिव्ब्यक्त—(सं.वि.) अत्यन्त स्पष्ट या प्रगटा ।
 परिव्ब्याध—(सं. पुं.) जलबैत, कनेर का वृक्ष; (वि.) चारों ओर से वेधनेवाला ।
 परिव्ब्य्या—(सं.स्त्री.) तपस्या, इधर-उधर घूमना, मिश्रक की भाँति जीवन बिताना ।
 परिव्ब्राज, परिव्ब्राजक, परिव्ब्राद्—(सं. पुं.) सब प्रकार के विषय-भोगों का परित्याग करके भ्रमण करनेवाला संन्यासी, परम-हंस, यति, श्रमण ।
 परिव्ब्रामित—(सं. वि.) शमन किया हुआ ।
 परिव्ब्रान्वत—(सं.वि.) जो सर्वदा समान रहे ।
 परिव्ब्रिष्ट—(सं.पुं.) पुस्तक या लेख का वह अंश जिसमें ऐसी बातें हों जो यथास्थान लिखने में छूट गई हों, पुस्तक की उप-योगिता बढ़ाने के लिये अवशिष्ट विषयों की पूर्ति; (वि.) अवशिष्ट, छूटा हुआ ।
 परिव्ब्रीलन—(सं. पुं.) सब बातों या विषयों को सोच-समझकर पढ़ना, अनुशीलन, स्पर्श, छूना ।
 परिव्बृद्ध—(सं. वि.) अच्छी तरह से शुद्ध किया हुआ ।
 परिव्बृद्धि—(सं. स्त्री.) परिव्बृद्ध होने का भाव, पाप से छुटकारा ।
 परिव्बृष्वा—(सं. स्त्री.) समुचित सेवा ।
 परिव्बृष्क—(सं.वि.) बहुत सूखा हुआ, रसहीन ।
 परिव्बृत्त—(सं. पुं.) सुरा, मद्य ।

परिशेष—(सं. पुं.) समाप्ति, अवशेष; (वि.) अवशिष्ट, बचा हुआ।
 परिशोध—(सं.पुं.) पूर्ण शुद्धि, ऋण चुकाना।
 परिशोधन—(सं. पुं.) पूर्ण रूप से शुद्ध करना, ऋण की चुकाई।
 परिशोधन—(सं.पुं.) समूचा सूख जाना।
 परिश्रम—(सं. पुं.) श्रम, कलाति, प्रयास, उद्यम, व्यायाम।
 परिश्रमी—(सं. वि.) उद्यमी।
 परिश्रय—(सं. पुं.) वेष्टन; घेरा, आश्रय, रक्षा का स्थान, समा, परिषद्।
 परिश्रयण—(सं. पुं.) वेष्टन, घेरा।
 परिश्रांत—(सं. वि.) बहुत थका हुआ।
 परिश्रान्ति—(सं. स्त्री.) थकावट।
 परिश्राम—(सं. पुं.) क्लान्ति, थकावट।
 परिश्रुत—(सं. वि.) प्रसिद्ध।
 परिश्लिष्ट—(सं. वि.) आलिंगित, छाती से लगाया हुआ।
 परिषत्, परिषद्—(सं. स्त्री.) प्राचीन काल की विद्वान् ब्राह्मणों की सभा, विद्वत्-सभा, समूह, समाज, समा, भीड़।
 परिषद्य—(सं. पुं.) सदस्य, सभासद्, स्वामी के पीछे-पीछे चलनेवाले अनुचर।
 परिषद्वल—(सं. वि.) समासद्, सदस्य।
 परिषिक्त—(सं. वि.) सींचा हुआ, जिस पर जल आदि छिड़का गया हो।
 परिषीवण—(सं. पुं.) गाँठ देना, सीना।
 परिषेक—(सं. पुं.) छिड़काव, स्नान।
 परिषेचक—(सं. वि.) सींचनेवाला, छिड़कनवाला।
 परिष्करण—(सं. वि.) अन्य के द्वारा पाला-पोसा हुआ, दत्तक पुत्र।
 परिष्कार—(सं. पुं.) संस्कार, शुद्धि, गोमा, अलंकार, भूषण, सजावट, संयम, स्वच्छता, निर्मलता, श्रृंगार।
 परिष्कृत—(सं. वि.) विभूषित, सजाया हुआ, शुद्ध किया हुआ, परिष्कार किया हुआ।
 परिष्क्रिया—(सं. स्त्री.) शुद्ध करना, माँजना, धोना, सजाना, विभूषित करना, सँवारना।
 परिष्वन—(सं. पुं.) प्रशंसा या स्तुति करना।
 परिष्वोम—(सं.पुं.) हाथी की पीठ पर की झूल।
 परिष्वद—(सं. पुं.) नदी, जल की धारा, द्वीप, टापु।
 परिष्वंग—(सं.पुं.) आलिंगन, गले मिलना।
 परिसंख्या—(सं. स्त्री.) परिगणना, गिनती, एक अर्थालंकार जिसमें पूछी या बिना पूछी हुई बात उसी के समान दूसरी बात को व्यंग्य या वाच्यसे काटने के निमित्त

कही जाती है; (यह कही हुई बात अन्य प्रमाणों से सिद्ध जान पड़ती है।)
 परिसंख्यान—(सं.पुं.) परिगणन, गिनती।
 परिसंचर—(सं. पुं.) सृष्टि का प्रलयकाल।
 परिसभ्य—(सं. पुं.) सम्य, सभासद्।
 परिसमंत—(सं. पुं.) वृत् के चारों ओर की सीमा या घेरा।
 परिसमाप्त—(सं. वि.) पूर्ण रूप से समाप्त, निःशेष।
 परिसर—(सं. पुं.) नदी या पर्वत के आस-पास की भूमि, मृत्यु, विधि, शिरा, नाड़ी।
 परिसरण—(सं. पुं.) इधर-उधर घूमना, परामभव, हार, मृत्यु।
 परिसर्प—(सं. पुं.) किसी के चारों ओर घूमना, पर्यटन, आवेष्टन, घूमना-फिरना, एक प्रकार का सर्प, एक प्रकार का कुष्ठ रोग, नाटक में किसी व्यक्ति के केवल मार्ग के चिह्न आदि की सहायता से या अनुमान के सहारे को खोजने के लिए भटकते फिरना।
 परिसाधन—(सं.पुं.) परम विषय का साधन।
 परिसारक—(सं.पुं.) इधर-उधर भटकनेवाला।
 परिसारी—(सं. वि.) भ्रमणकारी, घूमनेवाला।
 परिसीमा—(सं. स्त्री.) चारों ओर की सीमा।
 परिसकंद—(सं. पुं.) वह व्यक्ति जिसका पालन-पोषण उसके पिता के अलावा दूसरे ने किया हो।
 परिस्तरण—(सं. पुं.) छितराना, फैलाना, लपेटना।
 परिस्थान—(सं.पुं.) स्थिति, रहने का घर।
 परिस्यंद—(सं. पुं.) अधिक हिलना या कांपना।
 परिस्पर्धा—(सं. स्त्री.) घन, बल, यश आदि में किसी के बराबर होने की इच्छा।
 परिस्पर्धी—(सं. वि.) स्पर्धा करनेवाला।
 परिस्फुट—(सं. वि.) व्यक्त, प्रकाशित, विकसित, अच्छी तरह से खिला हुआ।
 परिस्यंद—(सं.पुं.) क्षरण, झरना या वहना।
 परिस्रव—(सं.पुं.) टपकना, चूना, मन्द प्रवाह।
 परिस्रुत—(सं. वि.) टपकता या चूता हुआ; (पुं.) पुष्पसार, फूलों का झर।
 परिस्रुता—(सं. स्त्री.) अंगूर की मदिरा।
 परिहृत—(सं. वि.) मृत, मरा हुआ; (हि. स्त्री.) हल के पीछे की ओर की वह सीधी खड़ी लकड़ी जिसके ऊपर मुठिया लगी होती है तथा नीचे की ओर हरिस रहता है।
 परिहर—(हि. पुं.) देखें 'परिहार'।
 परिहरण—(सं. पुं.) परिवर्जन, त्याग, किसी की वस्तु बलपूर्वक छीन लेना,

निवारण, निराकरण, (अनिष्ट, दोष आदि का) उपचार करना।
 परिहरणीय—(सं. वि.) परिहरण के योग्य, हटाने या दूर करने योग्य।
 परिहरना—(हि. क्रि. स.) त्यागना, छोड़ना।
 परिहृत—(हि. पुं.) परिहास, हँसी, ईर्ष्या, दुःख, खेद, डाह।
 परिहृत्—(सं. पुं.) एक प्रकार का छंद।
 परिहाटक—(सं.पुं.) बलय, हाथ का कंगन।
 परिहानि—(सं. स्त्री.) घाटा, हानि।
 परिहार—(सं. पुं.) अवज्ञा, अनादर, उपेक्षा, पशुओं के चरने की सार्वजनिक भूमि, निःशुल्क भूमि, छूट, खण्डन, दोषादि दूर करने की युक्ति, लड़ाई में जीता हुआ आयुवादि, घन, छिपाने की क्रिया, उपचार, त्यागने का कार्य, बहिष्कार, सूर्य या चन्द्र वंशीय राज-पूतों की एक स्वतन्त्र शाखा, किसी अनुचित कार्य के करने का प्रायश्चित्त नाटक में दिखाया जाना।
 परिहारक—(सं. वि.) परिहार करनेवाला।
 परिहारना—(हि. क्रि. स.) प्रहार करना, मारना।
 परिहारी—(सं. वि.) निवारण, त्याग या हरण करनेवाला।
 परिहार्य—(सं. वि.) जिसका परिहार किया जा सके।
 परिहास—(हि. पुं.) विनोद, क्रीड़ा, खेल, हँसी, दिल्लगी, टट्टा।
 परिहित—(सं. वि.) पहिना हुआ, ऊपर डाला हुआ, आच्छादित, चारों ओर से छिपा हुआ।
 परिहृत—(सं. वि.) पतित, भ्रष्ट, गिरा हुआ, नष्ट।
 परी—(फा. स्त्री.) अप्सरा, सुंदरी स्त्री।
 परीक्षक—(सं. पुं.) परखने या जाँचने-वाला, परीक्षा लेनेवाला।
 परीक्षण—(सं. पुं.) परीक्षा, जाँच-पड़ताल।
 परीक्षा—(सं. स्त्री.) गुण-दोष का विवेचन, वह कार्य जिससे किसी की योग्यता, सामर्थ्य आदि जानी जाय, समीक्षा, समालोचना, निरीक्षण, जाँच-पड़ताल, वैज्ञानिक खोजों के लिये प्रयोग।
 परीक्षित—(सं. वि.) जिसकी परीक्षा की गई हो।
 परीक्षित—(सं. पुं.) अर्जुन के पौत्र, अमि-मन्यु के पुत्र, पाण्डु-कुल के एक प्रसिद्ध राजा, (शमीक ऋषि के शाप से इनकी तक्षक ने डसा था जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। कलियुग का आरम्भ इनकी मृत्यु के

वाद से हुआ था ।

परीक्ष्य—(सं. वि.) परीक्षा करने योग्य, जिसकी परीक्षा करनी उचित हो ।

परीखना—(हि. क्रि.स.) देखें 'परखना' ।

परीछत—(हि. पुं.) देखें 'परीक्षित' ।

परीछना—(हि. क्रि. स.) परीक्षा लेना ।

परीछम—(हि. पुं.) पैर में पहिनने का एक आभूषण ।

परीछा—(हि. स्त्री.) देखें 'परीक्षा' ।

परीछित—(हि. वि.) देखें 'परीक्षित' ।

परीत—(सं. वि.) परिवेष्टित, घिरा हुआ ।

परीतोष—(सं. पुं.) परितोष, सन्तोष ।

परीत्त—(सं. वि.) संकीर्ण, संकुचित ।

परीप्सा—(सं. स्त्री.) प्राप्त करने की अमिलाषा ।

परीभाव—(सं. पुं.) परिभाव, अनादर ।

परीरंभ—(सं. पुं.) परिरंभ, आलिंगन ।

परीवाद—(सं. पुं.) परिवाद, अपवाद, निन्दा ।

परीवार—(सं. पुं.) तलवार का खोल, परिजन ।

परीषाह—(सं. पुं.) जैन शास्त्रों के अनुसार वाईस प्रकार के त्याग ।

परीसार—(हि. पुं.) इधर-उधर घूमना ।

परीहार—(सं. पुं.) अवज्ञा, अनादर ।

परीहास—(सं. पुं.) परिहास, उपहास, क्रीड़ा ।

परु—(सं. पुं.) पर्वत, समुद्र, स्वर्गलोक, ग्रन्थि ।

परुई—(हि. स्त्री.) मड़भूँजे की अन्न भूजने की नाँद ।

परुख—(हि. वि.) देखें 'परुष', कठोर, तीक्ष्ण ।

परुखाई—(हि. स्त्री.) परुषता, कठोरता, कड़ाई ।

परुष—(सं. पुं.) कठोर वात, तीर, वाण, सरपत; (वि.) कठोर, कड़ा, निष्ठुर, अप्रिय, निर्दय, जिसको दया न हो ।

परुषता—(सं. स्त्री.) कर्कशता, कठोरता, निर्दयता, निष्ठुरता ।

परुषत्व—(सं. पुं.) निष्ठुरता ।

परुषा—(सं. स्त्री.) रावी नदी, फालसा, काव्य में कठोर शब्दों के प्रयोग करने की रीति जिसमें टवर्गीय, द्वित्व, संयुक्त, रेफ, श, ष आदि वर्ण प्रयुक्त किये गये हों तथा लंबे-लंबे समास अधिक हों ।

परुषाक्षर—(सं. पुं.) कर्कश वचन, कठोर वात ।

परुषित—(सं. वि.) कठोर वचन बोलने वाला ।

परुषतर—(सं. वि.) कोमल, मृदु ।

परुषोक्ति—(सं. स्त्री.) निष्ठुर वचन ।

परुष्गा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी शाहवल्गू का वृक्ष और फल ।

परुष्य, परुष्यक—(सं. पुं.) फालसा ।

परे—(हि. अव्य.) दूर, उधर, उस ओर, अतीत, वाहर, ऊपर, बढ़कर, पीछे, बाद ।

परेई—(हि. स्त्री.) पंडुकी, कबूतर ।

परेखना—(हि. क्रि. स.) सब ओर से देखना, जाँचना, प्रतीक्षा करना, आसरा देखना ।

परेखा—(हि. स्त्री.) परीक्षा, जाँच-पड़ताल, प्रतीति, विश्वास, पश्चात्ताप, पछतावा, खेद ।

परेग—(हि. पुं.) लोहे की कील, छोटा काँटा ।

परेड—(हि. पुं.) सैनिक शिक्षा या व्यायाम ।

परेत—(हि. पुं.) देखें 'प्रेत', एक भूत योनि का नाम; (वि.) मृत, मरा हुआ; —भूमि—(स्त्री.) प्रेतभूमि, श्मशान; —राज—(पुं.) यम; —वास—(पुं.) श्मशान-भूमि ।

परेता—(हि. पुं.) सूत लपेटने का जुलाहों का एक उपकरण, वह बेलन या चरखी जिस पर पतंग (गुड्डी) का डोरा लपेटा जाता है ।

परेर—(हि. पुं.) आकाश ।

परेली—(हि. पुं.) ताण्डव नृत्य का एक भेद ।

परेवा—(हि. पुं.) पण्डुक पक्षी, कबूतर, तेज उड़नेवाली चिड़िया, शीघ्रगामी पत्रवाहक, हरकारा ।

परेश—(सं. पुं.) ईश्वर, विष्णु, ब्रह्मा ।

परेहा—(हि. पुं.) वह भूमि जो हल चलाने के बाद सींची गई हो ।

परैधित—(सं. वि.) दूसरे के द्वारा पाला-पोसा हुआ; (पुं.) कोकिल, कोयल ।

परो—(हि. अव्य.) देखें 'परसों' ।

परोक्ष—(सं. पुं.) अप्रत्यक्षता, अनुपस्थिति, अभाव, अनस्तित्व; (वि.) जो सामने न हो, गुप्त, छिपा हुआ ।

परोक्षत्व—(सं. पुं.) परोक्ष होने का भाव ।

परोजन—(हि. पुं.) देखें 'प्रयोजन' ।

परोट—(सं. पुं.) धी में पकाई हुई पूरी ।

परोढा—(सं. स्त्री.) दूसरे की पत्नी ।

परोना—(हि. क्रि. स.) देखें 'पिरोना' ।

परोपकार—(सं. पुं.) दूसरे के हित का काम, दूसरे का उपकार ।

परोपकारक—(सं. पुं.) वह जो दूसरे की मलाई करता हो ।

परोपकारी—(सं. वि.) दूसरे का हित करनेवाला ।

परोरना—(हि. क्रि. स.) अभिमन्त्रित करना, मन्त्र पढ़कर फूँकना ।

परोवरीण—(सं. वि.) जिसमें भले-बुरे दोनों गुण हों ।

परोवरीयस्—(सं. वि.) परम श्रेष्ठ, परमात्मा ।

परोसना—(हि. क्रि. स.) खाने के लिये किसी के सामने तरह-तरह के भोजन रखना, परसना ।

परोसा—(हि. पुं.) एक मनुष्य के खाने भर का भोजन जो थाली या पत्तल पर रखकर कहीं भेजा या किसी को दिया जाता है ।

परोसी—(हि. पुं.) देखें 'पड़ोसी' ।

परोसैया—(हि. पुं.) भोजन परसनेवाला ।

परोहन—(हि. पुं.) वह पशु जिस पर सवार होकर यात्रा की जाय, यथा—घोड़ा, बैल, हाथी आदि ।

परोता—(हि. स्त्री.) अन्न ओसाने के लिये हवा करने की चादर ।

पर्कट—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का बगला ।

पर्कटि, पर्कटी—(सं. स्त्री.) पाकड़ का वृक्ष ।

पर्कार—(हि. पुं.) देखें 'परकार', परकाल ।

पर्काला—(हि. पुं.) देखें 'परकाला' ।

पर्गना—(हि. पुं.) देखें 'परगना' ।

पर्चा—(हि. पुं.) देखें 'परचा' ।

पर्चाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'परचाना' ।

पर्चन—(हि. पुं.) देखें 'परचन' ।

पर्चनिया—(हि. पुं.) देखें 'परचनी' ।

पर्कक—(हि. पुं.) देखें 'पर्यक' ।

पर्जनो—(सं. स्त्री.) दाहहरिद्रा, दाहहलदी ।

पर्जन्य—(सं. पुं.) इन्द्र, मेघ, वादल, विष्णु ।

पर्जन्या—(सं. स्त्री.) दाहहलदी ।

पर्ण—(सं. पुं.) पत्र, पत्ता, ताम्बूल, पान, पक्ष, डैना, पलाश का पत्ता ।

पर्णकार—(सं. पुं.) पान बेचनेवाला, तमोली, बरई ।

पर्णकुटिका, पर्णकुटी—(सं. स्त्री.) पर्णशाला, झोपड़ी, केवल पत्तों की बनी हुई कुटी ।

पर्णकृच्छ्र—(सं. पुं.) एक व्रत जिसमें पाँच दिन तक पत्तों का क्वाथ पीकर रखा जाता है ।

पर्णखंड—(सं. पुं.) पुष्पहीन वनस्पति ।

पर्णचीरपट—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

पर्णनाल—(सं. पुं.) पत्तों का डंठल ।

पर्णभोजन—(सं. वि.) जो केवल पत्ते खाकर रहता हो ।

पर्णमणि—(सं. पुं.) पान की जड़, कुलंजन ।

पर्णमूग—(सं. पुं.) वृक्षों पर रहनेवाला पशु ।

पर्णल—(सं. वि.) पर्णयुक्त, जिसमें पत्ते हों ।

पर्णलता—(सं. स्त्री.) पान की बेल ।

पर्णवी—(सं. पुं.) खग, पक्षी ।

पर्णशय्या—(सं. स्त्री.) पत्तों का बिछावन ।

पर्णशाला—(सं. स्त्री.) पत्तों की बनी हुई कुटी ।

पर्णाटक—(सं. पुं.) एक प्राचीन ऋषि का नाम ।

पर्णाद—(सं. वि.) पत्ते खाकर रहनेवाला ।

पर्णाशन—(सं. वि.) देख 'पर्णाद'; (पुं.)

मेघ, वादल ।

पर्णासि—(सं. पुं.) तुलसी ।

पर्णाहार—(सं. वि.) जो पत्ते खाकर रहता हो ।

पर्णिक—(सं. वि.) पत्ते बेचनेवाला ।

पर्णिका—(सं. स्त्री.) पिठवन की लता ।

पर्णा—(हि. पुं.) वृक्ष, पेड़, तेजपत्ता, पिठवन, एक प्रकार की अप्सरा ।

पर्णाटज—(सं. पुं.) देखें 'पर्णशाला' ।

पर्त—(हि. स्त्री.) देखें 'परत' ।

पर्वनी—(हि. स्त्री.) घोती ।

पर्दा—(हि. पुं.) देखें 'परदा' ।

पर्दानशीन—(हि. वि. स्त्री.) परदे में रहनेवाली ।

पर्पट—(सं. पुं.) पित्तपापड़ा, पपड़ी ।

पर्पटी—(सं. स्त्री.) गोपीचंदन, पपड़ी, एक सुगन्ध-द्रव्य, पानड़ी; -रस—(पुं.) वैद्यक में एक प्रकार का रस ।

पर्परीक—(सं. पुं.) सूर्य, अग्नि, जलाशय ।

पर्व—(हि. पुं.) देखें 'पर्व' ।

पर्वत—(हि. पुं.) देखें 'पर्वत' ।

पर्वती—(हि. वि.) पहाड़-संबंधी, पहाड़ी ।

पर्यक—(सं. पुं.) परलंग, योग का एक आसन, एक प्रकार का वीरसन ।

पर्यत—(सं. पुं.) अंतिम सीमा; (अव्य.) तक, लौं ।

पर्यतोक्त—(सं. वि.) समाप्त किया हुआ ।

पर्यग्नि—(सं. पुं.) वह अग्नि जिसको लेकर परिक्रमा की जाती है ।

पर्यटन—(सं. पुं.) भ्रमण, घूमना, फिरना ।

पर्यग्य—(सं. पुं.) गरजता हुआ वादल, वादल की गरज ।

पर्यय—(सं. पुं.) किसी नियम का उल्लंघन ।

पर्ययण—(सं. पुं.) घोड़ की पीठ पर रखने का जिन या गद्दी ।

पर्यवरोध—(सं. पुं.) बाधा, रुकावट ।

पर्यवसान—(सं. पुं.) अन्त, समाप्ति, अन्तर्भाव, राग, क्रोध, डीक अर्थ निश्चित करना ।

पर्यवसायी—(हि. वि.) समाप्त करनेवाला ।

पर्यवस्कंद—(सं. पुं.) स्थ से उतरना ।

पर्यवस्थान—(सं. पुं.) विरोध ।

पर्यवस्थित—(सं. वि.) विरोधपूर्ण ।

पर्यसन—(सं. पुं.) चारों ओर फेंकना ।

पर्यस्त—(सं. वि.) पतित, प्रसारित, फैलाया हुआ, दूर किया हुआ ।

पर्यस्तापह नृत्ति—(सं. स्त्री.) एक अर्थालंकार जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण छिपाकर उस गुण का अन्य व्यक्ति या वस्तु में विद्यमान होना वर्णन किया जाता है ।

पर्यस्तिका—(सं. स्त्री.) पर्यक, खाट, परलंग ।

पर्याकुल—(सं. वि.) बहुत व्यग्र या घबड़ाया हुआ ।

पर्याकुलत्व—(सं. पुं.) व्याकुलता ।

पर्याण—(सं. पुं.) घोड़े का साज ।

पर्याप्त—(सं. वि.) यथेष्ट, पूरा, प्राप्त, मिला हुआ, जिसमें शक्ति या सामर्थ्य हो ।

पर्याप्ति—(सं. स्त्री.) यथेष्टता, प्राप्ति, शक्ति, नैयायिकों के मत से एक प्रकार का स्वरूप-संबंध ।

पर्याय—(सं. पुं.) क्रम, परंपरा, अनुक्रम, परिपाटी, प्रकार, अवसर, निर्माण, बनाने का काम, द्रव्य का गुण, एकार्थ-वाचक शब्द, वह अर्थालंकार जिसमें एक वस्तु का क्रम से अनेक आश्रय लेना वर्णन किया जाता है; -क्रम—(पुं.) बड़ाई-छोटाई आदि के विचार से पर्याय या क्रम; -वाचक—(वि.) जिसमें पर्याय शब्द हों; -वृत्ति—(स्त्री.) एक वृत्ति को त्यागकर दूसरी को ग्रहण करना; -शयन—(पुं.) अपनी-अपनी पारी से सोना ।

पर्यायिक—(सं. पुं.) संगीत या नृत्य में अंग-भाव पर्यायोक्त—(सं. वि.) जो क्रम से कहा गया हो ।

पर्यायोक्ति—(सं. स्त्री.) वह अर्थालंकार जिसमें कोई बात स्पष्ट रूप से न कही जाकर घुमाव-फिराव से कही गई हो अथवा किसी सुन्दर बहाने से कार्य-साधन का वर्णन किया गया हो ।

पर्यालोचन—(सं. पुं.) अनुशीलन, अच्छी तरह से विवेचन ।

पर्यालोचना—(सं. स्त्री.) किसी वस्तु की पूरी समीक्षा, पूरी जाँच-पड़ताल ।

पर्यावर्त—(सं. पुं.) लौटना ।

पर्यास—(सं. पुं.) हनन, वध, नाश ।

पर्यासन—(सं. पुं.) किसी को घेर कर बैठना ।

पर्यंत्यान—(सं. पुं.) खड़ा होना, उठना ।

पर्यंद्य—(सं. अव्य.) सूर्योदय का समीप-काल ।

पर्यपासक—(सं. पुं.) सेवा करनेवाला ।

पर्यपासन—(सं. पुं.) सेवा-सत्कार ।

पर्युप्ति—(सं. स्त्री.) वीआई, वीज बोना ।

पर्व—(सं. पुं.) वांस की गाँठ, अँगुली का जोड़, सन्धिस्थान, उत्सव, प्रस्ताव, पूर्णिमा और प्रतिपदा की सन्धि, अंश, भाग, धर्म, क्षण, अवसर, सूर्य अथवा चन्द्रमा का ग्रहण, यज्ञ आदि के समय होनेवाला उत्सव, भाग, टुकड़ा, पक्ष ।

पर्वक—(सं. पुं.) पर्व का घुटना ।

पर्वकाल—(सं. पुं.) पर्व का समय, पुण्य काल, पर्व का दिन, चन्द्रमा का क्षय-काल ।

पर्वगामी—(सं. पुं.) पर्व के दिन स्त्री से संभोग करनेवाला ।

पर्वण—(सं. पुं.) पूरा करने की क्रिया या भाव ।

पर्वणी—(सं. स्त्री.) पूर्णिमा, पूर्णमासी, आँस का एक रोग ।

पर्वत—(सं. पुं.) शैल, गिरि, पहाड़, किसी वस्तु का ऊँचा ढेर, वृक्ष, पेड़, एक प्रकार का साग, सन्यासी, एक प्रकार के गन्धर्व, मरीचि के एक पुत्र का नाम; -काक—(पुं.) डोमकोवा; -जा—(स्त्री.) नदी, गौरी, पार्वती; -पत्ति—(पुं.) हिमालय; -मोचा—(स्त्री.) पहाड़ी केला; -राज—(पुं.) हिमालय पर्वत; -पुत्री—(स्त्री.) दुर्गा; -वासी—(पुं., वि.) पहाड़ पर रहनेवाला ।

पर्वतात्मजा—(सं. स्त्री.) दुर्गा ।

पर्वतारि—(सं. पुं.) इन्द्र ।

पर्वताशय—(सं. पुं.) मेघ, वादल ।

पर्वताश्रय—(सं. वि.) पहाड़ पर रहनेवाला ।

पर्वतास्त्र—(सं. पुं.) प्राचीन काल का एक अस्त्र जिसको चलाने से शत्रु की सेना पर बड़े-बड़े पत्थर गिरने लगते थे अथवा सेना के चारों ओर पहाड़ खड़े हो जाते थे ।

पर्वती—(हि. वि.) पर्वत-संबंधी, पहाड़ी ।

पर्वतीय—(सं. वि.) पर्वत-संबंधी, पहाड़ी, पहाड़ पर रहनेवाला, पहाड़ पर उत्पन्न होनेवाला ।

पर्वतेवर—(सं. पुं.) पर्वतराज, हिमालय ।

पर्वतोद्भव—(सं. पुं.) हिमालय, पारद, पारा ।

पर्वतोद्भूत—(सं. पुं.) अभ्रक, अवरक ।

पर्वंधि—(सं. पुं.) चन्द्र, चन्द्रमा ।

पर्वमूल—(सं. पुं.) चतुर्दशी और अमावस्या का मध्यवर्ती मुहूर्त ।

पर्वमला—(सं. स्त्री.) सफेद दूध ।

पर्वयानि—(सं. पुं.) गाँठदार वनस्पति, यथा—ऊँस ।

पर्वर—(हि. पुं.) परवल ।

पर्वरुद, पर्वरुह—(सं. पुं.) दाड़िम, अनार ।

पर्वसंधि—(सं. पुं.) घुटने का जोड़, सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहण लगने का समय, पूर्णिमा अथवा अमावस्या और प्रतिपदा के बीच का समय ।

पर्वी—(हि. स्त्री.) चिन्ता ।

पर्वानिगी—(हि. स्त्री.) आशा ।

पर्वानि—(हि. पुं.) आज्ञा-पत्र ।

पर्वहि—(सं. पुं.) पर्वदिन, उत्सव का दिन; (हि. स्त्री.) चिन्ता, परवाह ।

पर्विणी—(हि. स्त्री.) पर्व का दिन ।

पर्वनीप—(हि. वि.) स्पर्श करने योग्य ।

पर्वी—(सं. पुं.) परम्, फरसा, पसली ।

पर्वीका—(सं. स्त्री.) छाती की हड्डी ।

पर्वीपाणि—(सं. पुं.) परन्तराम ।

पर्वीराम—(सं. पुं.) देवों 'परन्तराम' ।

पर्वी—(सं. वि.) निष्ठुर, कठोर ।

पर्वी—(सं. स्त्री.) सन्ना, समाज ।

पलंकट—(सं. वि.) भीरु, डरपोक ।
 पलंकव—(सं. पुं.) राक्षस, गुग्गुलु ।
 पलंकवा—(सं. स्त्री.) गुग्गुलु, पलाश ।
 गोरखमुण्डी, लाह, मक्खी, छोटा गोखरू ।
 पलंका—(हि. स्त्री.) अति दूर का स्थान ।
 पलंग—(हि. पुं.) पर्यंक, सुन्दर चारपाई ।
 पलंगड़ी—(हि. स्त्री.) छोटा पलंग ।
 पलंगतोड़—(हि. वि.) आलसी, निकम्मा, कामचोर ।
 पलंगपोश—(हि. पुं.) पलंग पर विछाने की चादर ।
 पलंगिया—(हि. स्त्री.) छोटा पलंग, खटिया ।
 पल—(सं. पुं.) समय का एक प्राचीन विभाग जो चौबीस सेकेंड के बराबर होता है, घड़ी या दण्ड का साठवाँ भाग, धान का पुआल, चलने की क्रिया, छल, तुला, तराजू एक तौल जो चार कर्ष के बराबर होती है, आमिष, मांस, मूर्ख, दगांचल, पलक, समय का अति सूक्ष्म विभाग, क्षण; (मुहा.) —मारते-अण भर में, तुरत; —में-अति शीघ्र, देखते-देखते ।
 पलई—(हि. स्त्री.) पतली टहनी, डाल का सिरा ।
 पलक—(सं. पुं.) आँख के ऊपर का चमड़े का परदा जिसके गिरने से आँख बंद होती और उठने से खुलती है, क्षण, पल; (मुहा.) —गिरना-आँख बंद होना, झपकी लगना, नौद आना; —झपते-बहुत थोड़े समय में, बात की बात में; (किसी के लिये)—विछाना-बड़े प्रेम से स्वागत करना; —भाँजना-इशारा करना; —मारना-पलक गिराना, आँखों से संकेत या इशारा करना; —से पलक न लगना-आँखें खुली रहना, नौद न आना ।
 पलक दरिया—(हि. वि.) अति उदार, बड़ा दानी ।
 पलक-नेवाज—(हि. वि.) अति उदार, क्षणभर में निहाल कर देनेवाला ।
 पलक-पीटा—(हि. पुं.) आँख की वरीनी झड़ने का एक रोग ।
 पलका—(हि. पुं.) पलंग, चारपाई ।
 पलक्या—(सं. स्त्री.) पालक का साग ।
 पलखन—(हि. पुं.) पाकर का पेड़ ।
 पलंगंड—(सं. पुं.) कच्ची भीत पर मिट्टी का लेप करनेवाला ।
 पलचर—(हि. पुं.) राजपूत जाति के पुराणोक्त उपदेवता ।
 पलटन—(हि. स्त्री.) अंग्रेजी पैदल सेना का एक विभाग; (इसमें दो सौ सैनिक

रहते हैं), समूह, समदाय, दल ।
 पलटना—(हि. क्रि. अ., स.) किसी वस्तु के ऊपर के भाग को नीचे और नीचे के भाग को ऊपर करना, उलटा हो जाना, अच्छी स्थिति प्राप्त करना, अच्छे दिन बहुरना, बार-बार उलट-फेर करना, एक बात से मुकरकर दूसरी बात कहना, बदलना, लौटाना, फेरना, काया-पलट होना, लौटना, पीछे फिरना, मुड़ना, एक वस्तु को त्यागकर दूसरी वस्तु को ग्रहण करना ।
 पलटनिया—(हि. पुं.) पलटन में काम करनेवाला सैनिक; (वि.) पलटन का ।
 पलटा—(हि. पुं.) पलटने की क्रिया या भाव, प्रतिफल, बदला, परिवर्तन, नाव में वह पटरी जिस पर खेनेवाला बैठता है, मल्लयुद्ध की एक युक्ति, गाने में शीघ्रता समन्वित ताल-लय के साथ ऊँचे स्वर तक पहुँचकर धीरे-धीरे नीचे स्वरों तक पहुँचना, लोहे या पीतल की बड़ी खुरचनी; (मुहा.) —खाना-परिस्थिति का बदल जाना ।
 पलटाना—(हि. क्रि. स.) बदलना, फेरना, लौटाना ।
 पलटी—(हि. स्त्री.) देखें 'पलटा' ।
 पलट्टे—(हि. अव्य.) प्रतिफलस्वरूप, बदले में ।
 पलड़ा—(हि. पुं.) तुलापट, तराजू का पल्ला ।
 पलथा—(हि. पुं.) कलैया मारना ।
 पलथी—(हि. स्त्री.) बैठने का एक ढंग जिसमें दाहिने पैर का पंजा बाएँ और बाएँ पैर का पंजा दाहिने पुट्टे के नीचे दबाकर रखा जाता है और दोनों टाँगों नीचे ऊपर होकर दोनों जाँघों से त्रिकोण बनाती हैं ।
 पलद—(सं. वि.) (वह द्रव्य) जिसके खाने से मांस की वृद्धि होती है ।
 पलना—(हि. क्रि. अ.) पाला-पोसा जाना, खा-पीकर मोटा होना, तैयार या हूँट-पुष्ट होना; (पुं.) पालना ।
 पलनाना—(हि. क्रि. स.) घोड़े की पीठ पर गद्दा कसकर तैयार करना ।
 पलप्रिय—(सं. वि.) मांस खानेवाला ।
 पलभक्षी—(हि. पुं.) मांसाहारी, मांस खानेवाला ।
 पलरा—(हि. पुं.) देखें 'पलड़ा' ।
 पलल—(सं. पुं.) मांस, कीचड़, तिल का चूर्ण, तिलकुट ।
 पललप्रिय—(सं. वि.) देखें 'पलप्रिय' ।
 पललाशय—(सं. पुं.) गलगंड, घेंघा ।
 पलव—(सं. पुं.) मछली मारने का ज्ञान ।

पलवल—(हि. पुं.) देखें 'परवल' ।
 पलवा—(हि. पुं.) ऊख का अगौरा, अंजुली, चुल्लू ।
 पलवाना—(हि. क्रि. स.) किसी के द्वारा पालन-पोषण कराना ।
 पलवारी—(हि. पुं.) नाव खेनेवाला माँझी ।
 पलवाल—(हि. वि.) हूँट-पुष्ट, हट्टा-कट्टा ।
 पलवैया—(हि. वि.) पालन-पोषण करनेवाला ।
 पलस्तर—(हि. पुं.) भीत आदि पर गारे आदि का लेप, लेट; (मुहा.)—ढीला होना-अति व्यग्र होना; —कारी—(स्त्री.) पलस्तर करने या होने का काम ।
 पलहना—(हि. क्रि. अ.) पत्तियों से लद जाना, पल्लवित होना, पत्तियाँ फटना ।
 पलहा—(हि. पुं.) कोमल पत्ता, कोपल ।
 पलंग—(सं. पुं.) शिशुमार, सूँस ।
 पलांडु—(सं. पुं.) प्याज ।
 पला—(हि. पुं.) पल, निमिष, तराजू का पलड़ा, पल्ला, किनारा, अंचल ।
 पलाद—(सं. पुं.) मांसमक्षक, राक्षस ।
 पलान—(हि. पुं.) पशुओं की पीठ पर कसा जानेवाला बोझ रखन का गद्दा ।
 पलानना—(हि. क्रि. स.) घोड़े आदि पर पलान कसना, गद्दा बाँधना, घावा करने के लिए तैयारी करना ।
 पलाना—(हि. क्रि. अ., स.) पलायन करना, भाग जाना, भगा देना ।
 पलानी—(हि. स्त्री.) पैर की अँगुलियों में पहिनन का एक गहना, छप्पर ।
 पलान्न—(सं. पुं.) चावल और मांस के मेल से बना हुआ भोजन ।
 पलायक—(सं. वि.) पलायन करनेवाला, भगू, भागनेवाला ।
 पलायन—(सं. पुं.) भागने की क्रिया या भाव, भागना ।
 पलायमान—(सं. वि.) भागता हुआ ।
 पलायित—(सं. वि.) भागा हुआ ।
 पलायी—(सं. वि.) पलायक, भगू ।
 पलाल—(सं. पुं.) किसी पौधे का सूखा डंठल, पुआल ।
 पलाश—(सं. पुं.) पत्र, पत्ता, ढाक का फूल, पलास का वृक्ष, कचूर, राक्षस, शासन, मगध देश, हरा रंग; (वि.) निष्ठुर, कठोर ।
 पलाशक—(सं. पुं.) पलाश का फूल ।
 पलाशन—(सं. पुं.) सारिका, मीना ।
 पलाश-निर्यास—(सं. पुं.) ढाक का गोंद ।
 पलाशपर्णी—(सं. स्त्री.) अश्वगन्धा, अस-गंध ।

पलाशिका—(सं. पुं.) विदारीकन्द ।
 पलाशी—(सं. वि.) पल्लवित, मांसा-
 हारी; (पुं.) राक्षस ।
 पलास—(हिं. पुं.) पलाश, ढाक ।
 पलासना—(हिं. क्रि. स.) सिल जाने पर
 जूते का निकला हुआ चमड़ा काटना ।
 पालिजी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की घास ।
 पालिक—(सं. वि.) जो तौल में एक पल हो ।
 पालिका—(हिं. पुं.) खाट, चारपाई ।
 पालिध—(हिं. पुं.) घड़ा, प्राचीर, गोबाला,
 गोपुर, फाटक, अर्गला, अगरी ।
 पालित—(सं. पुं.) ताप, गरमी, गुग्गुलु,
 कीचड़, मिचं; (वि.) वृद्ध, बूढ़ा, सफेद
 वालवाला ।
 पालिती—(हिं. वि.) पके वालवाला ।
 पालिया—(हिं. पुं.) पशुओं का गला फलने
 का रोग ।
 पालिहर—(हिं. पुं.) वह खेत जो बरसात
 में बिना कुछ बोये छोड़ दिया जाता है ।
 पली—(सं. स्त्री.) सामान्य मक्खी; (हिं.
 स्त्री.) बड़े पात्र से घी या तेल निकालने
 की एक प्रकार की करछी ।
 पलीत—(हिं. पुं.) भूत, प्रेत, पिशाच;
 (वि.) दुष्ट, धूर्त, चालाक; (मुहा.)—
 मिट्टी पलीत होना—दुर्दशा होना ।
 पलीती—(हिं. स्त्री.) छोटा पलीता ।
 पलुआ—(हिं. वि.) पाला हुआ, पालतू;
 (पुं.) सन की जाति का एक पौधा ।
 पलुहना—(हिं. क्रि. अ.) पल्लवित होना,
 कांपल निकलना ।
 पलुहाना—(हिं. क्रि. स.) हराभरा करना ।
 पलेट—(अं. स्त्री.) लंबी पट्टी, गोट ।
 पलेडना—(हिं. क्रि. स.) चक्का देना, ढकेलना ।
 पलेथन—(हिं. पुं.) वह सूखा आटा जो
 रोटी बेलते समय लोई में लगाया जाता
 है जिससे वह चकले म न चिपक जाय,
 परथन, किसी हानि के बाद होनेवाला
 अनावश्यक व्यय; (मुहा.)—निकलना—
 खूब पीटा जाना ।
 पलेनर—(अं. पुं.) चौरस करने की पटिया ।
 पलेना—(हिं. पुं.) देखें 'पलेनर' ।
 पलेव—(हिं. पुं.) खेत की हलकी सिंचाई,
 जिस को गाढ़ा करने के लिये इसमें
 मिलाया हुआ मसाला या आटा ।
 पलोटना—(हिं. क्रि. अ., स.) पैर दवाना,
 कष्ट के कारण छटपटाना या तड़फड़ाना ।
 पलोथन—(हिं. पुं.) देखें 'पलेथन' ।
 पल्टन—(हिं. स्त्री.) देखें 'पलटन' ।
 पलटा—(हिं. पुं.) देखें 'पलटा' ।
 पलोचना—(हिं. क्रि. स.) पैर दवाना, सेवा-

शुश्रूषा करना ।
 पलोसना—(हिं. क्रि. स.) जल आदि से धोना,
 शुश्रूषा करके अपने पक्ष में करना ।
 पल्यक—(सं. पुं.) पलंग, पर्यक, खाट ।
 पल्ल—(सं. पुं.) पलाल, पुआल ।
 पल्लव—(सं. पुं.) नये निकले हुए कोमल
 पत्ते, किसलय, विस्तार, बल, हाथ में
 पहिने का कंगन, चपलता, नाच में हाथ
 की एक आकर्षक मुद्रा, प्राचीन पल्लव
 देश, दक्षिण का एक प्राचीन राजवंश;
 -प्राही—(वि.) किसी विषय का थोड़ा
 ज्ञान रखनेवाला ।
 पल्लवना—(हिं. क्रि. अ.) पत्ते निकलना,
 पल्लवित होना ।
 पल्लवाद—(सं. पुं.) हरिण, हिरन ।
 पल्लवाधार—(सं. पुं.) डाल, शाखा ।
 पल्लवास्त्र—(सं. पुं.) कामदेव ।
 पल्लविक—(सं. वि.) कामुक, लम्पट ।
 पल्लवित—(सं. वि.) जिसमें नये-नये पत्ते
 निकले हों, लहलहाता हुआ, हरा-भरा,
 लंबा-चौड़ा, रोमांचयुक्त, जिसके रोंगटे
 खड़े हो गये हों; (पुं.) लाख का रंग ।
 पल्ला—(हिं. पुं.) वस्त्र का अंचल, छोर,
 दूरी, अधिकार, पास, तराजू की एक
 ओर की डलिया, पलड़ा, कंधी के दो
 भागों में से एक भाग, पटल, किवाड़,
 पहल, तीन मन का बोझ, चादर जिसमें
 अन्न बाँधकर लोग ले जाते हैं, दुपलिया
 टोपी का एक भाग; (मुहा.)—छटना—
 छुटकारा पाना; -पसारना—किसी से कुछ
 माँगने के लिये कपड़ा फलाना; -भारी
 होना—किसी पक्ष का बल बढ़ना; पल्ले
 पड़ना—प्राप्त होना, मिलना; पल्ले
 बाँधना—जिम्मे करना ।
 पल्लि—(सं. स्त्री.) कुटी, ग्राम, गाँव, घर,
 छिपकली ।
 पल्ली—(सं. स्त्री.) छिपकली, गोधा,
 विस्तुड्या ।
 पल्लु—(हिं. पुं.) चौड़ी गोट, पल्ला, छोर,
 अंचरा ।
 पल्ले—(हिं. पुं.) पल्ला; (अव्य.) जिम्मे;
 -दार—(पुं.) आदत या दुकान में अन्न
 तोलनेवाला मनुष्य, बया, अन्न डोनेवाला
 कुली; -चारी—(स्त्री.) अन्न तोलने
 का काम ।
 पल्लौ—(हिं. पुं.) देखें 'पल्लव', पल्ला ।
 पल्लौरि—(हिं. स्त्री.) डयोड़ी ।
 पल्लौरिया—(हिं. पुं.) डयोड़ीदार ।
 पल्लई—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की चिड़िया ।
 पवन—(सं. पुं.) हवा, वायु, कुम्हार का

आर्वा, जल, पानी, विष्णु, श्वास, साँस,
 अन्न की भूसी अलगाना; (वि.) पावन,
 पवित्र; -अस्त्र—(हिं. पुं.) वह अस्त्र
 जिसके चलाने से प्रचण्ड वायु बहने लगती
 है; -कुमार—(पुं.) हनुमान्, भीमसेन;
 -चक्की—(हिं. स्त्री.) वायु के वेग से
 चलनेवाली चक्की या कल; -चक्र—(पुं.)
 चक्कर खाती हुई वायु, चक्रवात, बवंडर;
 -ज, -तनय—(पुं.) हनुमान्, भीमसेन;
 -तंद, -तंदन—(पुं.) हनुमान्, भीमसेन;
 -पति—(पुं.) वायु के अविष्ठाता देवता;
 -परीक्षा—(स्त्री.) ज्योतिषियों की एक
 गणना जिसके अनुसार आषाढ़ शुक्ल
 पूर्णिमा के दिन वायु की दिशा को देखकर
 ऋतु का मविष्य बतलाया जाता है;
 -पुत्र—(पुं.) हनुमान्, भीमसेन; -वाण—
 (पुं.) वह वाण जिसको चलाने से वायु
 बड़े वेग से बहने लगे; -ब्राह्मन्—(पुं.)
 अग्नि; -संघात—(पुं.) दो ओर से वायु
 का आकर आपस में वेग से टकराना;
 -नुत—(पुं.) हनुमान्, भीमसेन ।
 पवनात्मज—(सं. पुं.) भीमसेन, हनुमान् ।
 पवनाश, पवनाशन—(सं. पुं.) सर्प, साँप ।
 पवनाशिन—(सं. पुं.) सर्प; (वि.) जो
 हवा खाकर रहता हो ।
 पवनास्त्र—(सं. पुं.) पुराण के अनुसार एक
 अस्त्र जिसके चलाने से वायु बड़े वेग से
 चलने लगती थी ।
 पवनी—(हिं. स्त्री.) नाई, वारी, लोहार,
 आदि जो गाँव के ब्राह्मणों, क्षत्रियों आदि
 से प्रतिवर्ष कुछ अनाज पाते हैं ।
 पवनेष्ट—(सं. पुं.) वकायत, नीवू का पेड़ ।
 पवमान—(सं. पुं.) स्वाहा देवी के गर्भ से
 उत्पन्न अग्नि के एक पुत्र का नाम,
 चन्द्रमा का एक नाम ।
 पवर—(हिं. वि.) देखें 'प्रवर' ।
 पवर्ग—(सं. पुं.) वर्णमाला का पाँचवाँ
 वर्ग, जिसमें प, फ, ब, न, और म—ये
 पाँच अक्षर हैं ।
 पवार—(हिं. पुं.) परमार क्षत्रियों की एक
 शाखा ।
 पवारना—(हिं. क्रि. स.) गिराना, फेंकना,
 खेत में छोट कर बीज बोना ।
 पवाई—(हिं. स्त्री.) एक पैर का जूता;
 चक्की का एक पाट ।
 पवाई—(हिं. स्त्री.) चक्रवेंड़ ।
 पवाई—(हिं. पुं.) देखें 'पवाई' ।
 पवाना—(हिं. क्रि. स.) मोजन कराना,
 खिलाना ।
 पवार—(हिं. पुं.) देखें 'परमार' ।

पवि-(सं.पुं.) वज्र, विजली, वावय, मार्ग, धूहर का पौधा ।
 पवित-(सं. वि.) पूत, पवित्र, शुद्ध ।
 पविताई-(हि. स्त्री.) पवित्रता ।
 पवित्तर-(हि. वि.) देखें 'पवित्र' ।
 पवित्र-(सं. वि.) शुद्ध, निर्मल; (पुं.) विष्णु, महादेव, कार्तिकेय, तिल का पौधा, कुश, कुश की बनी हुई हाथ में पहिनेने की पवित्री, शुद्ध द्रव्य, मधु, घी, यज्ञोपवीत, वर्षा, ताँवा, दूध, जल पानी, रगड़ ।
 पवित्रक-(सं.पुं.) सूत का बना हुआ जाल, कुश, दौने का पौधा, गूलर या पीपल का वृक्ष, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत ।
 पवित्रता-(सं. स्त्री.) स्वच्छता, शुद्धि ।
 पवित्रधान्य-(सं. पुं.) यव, जौ ।
 पवित्रा-(सं. स्त्री.) श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी, रेशम की बनी हुई माला, तुलसी, हलदी, शमी का वृक्ष, पीपल का पेड़ ।
 पवित्रात्मा-(हि. वि.) जिसकी आत्मा पवित्र हो, शुद्ध अन्तःकरणवाला ।
 पवित्रित-(सं. वि.) पवित्र शुद्ध या निर्मल किया हुआ ।
 पवित्री-(सं. स्त्री.) कुश का बना हुआ छल्ला जो यज्ञादि के समय अनामिका में पहिना जाता है, पैती ।
 पविधर-(सं. पुं.) वज्र धारण करनेवाले इन्द्र ।
 पवीर-(सं. पुं.) आयुध, शस्त्र, हल का फार ।
 पवेरना-(हि. क्रि. स.) छोटकर बोना ।
 पवेरा-(हि. पुं.) वह बोआई जो अन्न को छोटकर की जाय ।
 पशम-(हि. पुं.) बहुत बढ़िया तथा कोमल ऊन जिसके दुशाले आदि बनते हैं, उपस्थ पर के बाल, नगण्य या अति तुच्छ पदार्थ ।
 पशमीना-(हि. पुं.) एक प्रकार का उम्दा ऊनी कपड़ा ।
 पशव्य-(सं. वि.) पशु-सम्बन्धी ।
 पशु-(सं.पुं.) चार पैरों से चलनेवाले लोमश और पूँछयुक्त प्राणी, प्राणी मात्र, जीव, देवता, पागल, यज्ञ, सांसारिक मनुष्यों की आत्मा; -कर्म-(पुं.) यज्ञ आदि में पशुओं का बलिदान; -काम-(वि.) गाय, भैंस आदि का अमिलापी; -क्रिया-(स्त्री.) मँथन; -घ्न-(वि.) पशुघातक; -चर्या-(स्त्री.) पशु के समान विवेकहीन आचरण; -त्ता-(स्त्री.) पशु का भाव,

मूर्खता; -त्व-(पुं.) देखें 'पशुता';
 -दा-(स्त्री.) कुमार की एक अनुचरी का नाम; -देवता-(स्त्री.) पशुओं के अविष्ठाता देवता; -धर्म-(पुं.) पशुओं के समान प्रसंयत मैथुनादि कर्म जो निन्दनीय समझे जाते हैं; -नाथ-(पुं.) शिव, पशुस्वामी सिंह; -प-(वि.) पशुओं को पालनेवाला; -पतास्त्र-(पुं.) शिव का शूलास्त्र; -पति-(पुं.) शिव, महादेव, हुताशन, अग्नि, औषध, दवा; -पाल-(पुं.) पशुओं को पालनेवाला; -पालक-(वि.) पशुओं का रक्षक; -पाश-(पुं.) पशुरूप जीव का बंधन; -पाशक-(पुं.) एक रतिबन्ध का नाम; -बंधक-(पुं.) पशुओं को बाँधने की रस्ती; -भाव-(पुं.) पशुत्व, साधकों की मन्त्र-सिद्धि का एक विशेष प्रकार; -मार-(पुं.) पशु की तरह हिंसा; -रक्षक-(पुं.) गोपाल, ग्वाला; -रक्षी-(पुं.) पशु की रक्षा करनेवाला; -राज-(पुं.) सिंह, शेर; -वत्-(वि.) पशुतुल्य ।
 पश्चात्-(सं. अव्य.) पीछे से, बाद में, फिर, अनन्तर; (पुं.) पश्चिम दिशा, शेष, अन्त; -कर्म-(पुं.) वैद्यक के अनुसार वह कर्म जो शरीर का बल, रक्त तथा अग्नि की वृद्धि के लिये रोग हटने पर किया जाता है ।
 पश्चात्ताप-(सं. पुं.) पछतावा ।
 पश्चात्तापी-(सं. वि.) पछतावा करनेवाला ।
 पश्चाद्विक्त-(सं. स्त्री.) बाद में कहना ।
 पश्चाद्भाग-(सं. पुं.) पीछ का हिस्सा ।
 पश्चान्नुताप-(सं. पुं.) पछतावा ।
 पश्चान्मारुत-(सं. पुं.) पश्चिम की ओर बहनेवाली वायु ।
 पश्चारुज-(सं.पुं.) बालकों का एक रोग ।
 पश्चार्ध-(सं. वि.) शेषार्ध, अपरार्ध ।
 पश्चिम-(सं. वि.) अन्तिम, जो बाद में उत्पन्न हुआ हो बाद का; (पुं.) वह दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है, प्रतीची, पच्छिम; -रात्र-(पुं.) रात्रि का शेष भाग; -वाहिनी-(वि.) पश्चिम की ओर बहनेवाली (नदी) ।
 पश्चिमा-(सं. स्त्री.) सूर्यास्त की दिशा, पश्चिम ।
 पश्चिमाचल-(सं. पुं.) एक कल्पित पर्वत जिसके विषय में लोगों की यह धारणा है कि अस्त होते समय सूर्य उसकी आड़ में छिप जाता है, अस्ताचल ।
 पश्चिमी-(हि. वि.) पश्चिम-संबंधी,

पश्चिम का ।
 पश्चिमोत्तर-(सं. स्त्री.) वायुकोण, पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण ।
 पश्तो-(हि. स्त्री.) प्राचीन आर्य भाषाओं में से एक जो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा से लेकर अफगानिस्तान तक बोली जाती है, साढ़े तीन मात्राओं का एक ताल ।
 पशमीना-(हि. पुं.) एक प्रकार का उत्तम और कोमल ऊनी वस्त्र ।
 पश्यंती-(सं. स्त्री.) नाद का उस समय का सूक्ष्म स्वरूप जब वह मूलाधार से उठकर हृदय में जाता है । (वाणी या सरस्वती के चार चक्र माने गये हैं, यथा-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ।)
 पश्यतोहर-(सं. वि.) आँखों के सामने से वस्तु चुरा लेनेवाला, जैसे-सुनार ।
 पश्वयन-(सं. पुं.) एक प्रकार का यज्ञ ।
 पश्वचाचार-(सं.पुं.) देवी का वह पूजन जो कामना और संकल्पपूर्वक वेदोक्त विधान से किया जाता है ।
 पष-(हि. पुं.) पक्ष, डैना, पंख ।
 पषा-(हि. पुं.) श्मश्रु, दाढ़ी ।
 पषाण-(हि. पुं.) देखें 'पाषाण' ।
 पषारना-(हि. क्रि. स.) प्रक्षालन करना, धोना ।
 पसंगा (घा)-(हि.पुं.) वह भार जो तराजू के पल्लों को समभार करने के लिये उस पल्ले की ओर बाँध दिया जाता है जो हलका होता है, पासंग; (वि.) बहुत कम या थोड़े परिमाण का; (मुहा.)-भौ न होना-किसी की तुलना में कुछ भी न होना ।
 पसंद-(फा. स्त्री.) चुनाव, रुचि; (वि.) रुचि के योग्य, जो मन को जँचे ।
 पसंदा-(हि. पुं.) एक प्रकार का कबाब ।
 पसई-(हि. स्त्री.) पहाड़ी राई ।
 पसंदीदा-(फा. वि.) पसंद किया हुआ ।
 पसनी-(हि. स्त्री.) अन्न-प्राशन-संस्कार जिसमें बच्चों को पहली बार अन्न खिलाया जाता है ।
 पसमीना-(हि. पुं.) देखें 'पशमीना' ।
 पसर-(हि.पुं.) गहरी की हुई हथेली, आधी अंजली, विस्तार, फैलाव, आक्रमण, धावा, रात के समय पशु चुराने का दुष्कर्म ।
 पसरना-(हि. क्रि. अ.) विस्तृत होना, बढ़ना, फैलना, आगे की ओर बढ़ना, पैर फैलाकर सोना, हाथ-पैर फैलाकर लेटना ।
 पसरहट्टा, पसरहट्टा-(हि.पुं.) वह बाजार जिसमें पंसारियों की दुकानें हों और जहाँ

जड़ी-बूटी, मसाले आदि विकते हैं।
पसराना—(हिं. क्रि.स.) पसराने का काम दूसरे से कराना।
पसराँहा—(हिं. वि.) पसरने या फैलनेवाला।
पसली—(हिं. स्त्री.) मनुष्यों तथा पशुओं के शरीर में छाती के अस्थिपंजर की गोलाकार आड़ी हड्डियों में से हर एक; (मुहा.) तोड़ना—बहुत मारना; फड़कना—उमंग या जोश आना।
पसवपेस—(हिं. पुं.) व्यग्रता, द्विविधा।
पसवा—(हिं. पुं.) हलका गुलाबी रंग।
पसही—(हिं. पुं.) तिन्नी का चावल।
पसा—(हिं. पुं.) अंजली।
पसाई—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की घास।
पसाउ—(हिं. पुं.) प्रसाद, अनुकम्पा, प्रसन्नता।
पसाना—(हिं. क्रि. स.) भात में से माँड़ निकालना, पसेव निकालना या गिराना।
पसार—(हिं. पुं.) पसराने की क्रिया या भाव, विस्तार, फैलाव।
पसारना—(हिं. क्रि. स.) विस्तार करना, फैलाना, आगे को बढ़ाना।
पसारी—(हिं. पुं.) देखें 'पंसारी'।
पसाव—(हिं. पुं.) वह पदार्थ जो भात आदि पसाने पर निकले, माँड़, पीच।
पसावन—(हिं. पुं.) किसी उवाली हुई वस्तु में से निकला हुआ पानी, माँड़, पीच।
पसीजना—(हिं. क्रि. अ.) किसी ठोस पदार्थ में मिले हुए द्रव अंशों का गरमी से रिसकर बहना, चित्त में दया उत्पन्न होना।
पसीना—(हिं. पुं.) परिश्रम या गरमी से शरीर के रंधों से निकलनेवाला जल, श्रमवारि, स्वेद।
पसु—(हिं. पुं.) देखें 'पशु', जानवर।
पसुरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'पसली'।
पसूज—(हिं. स्त्री.) वह सिलाई जिसमें तोपे भरे जाते हैं।
पसूजना—(हिं. क्रि. स.) सिलाई करना, सीना।
पसूता—(हिं. स्त्री.) प्रसूता, जिस स्त्री ने हाल में बच्चा जना हो।
पसेउ—(हिं. पुं.) देखें 'पसेव'।
पसेरी—(हिं. स्त्री.) पाँच सेर का बाट, पसेरी।
पसेव—(हिं. पुं.) वह तरल पदार्थ जो किसी पदार्थ के पसीजने पर निकले, रसकर निकलनेवाला जल, स्वेद, पसीना।
पसेवा—(हिं. पुं.) सोनार की अँगौठी पर रखने का ईंट का टुकड़ा।
पस्ताना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'पछताना'।
पस्तावा—(हिं. पुं.) देखें 'पछतावा'।
पस्स—(अं. पुं.) जहाज का भंडारी।
पस्सी बबूल—(हिं. पुं.) एक प्रकार का

पहाड़ी बबूल का वृक्ष, इस पेड़ का गोंद।
पहुँ—(हिं. अव्य.) निकट, समीप, पास।
पहुँचुल—(हिं. पुं.) तरकारी काटने का हँसुआ।
पह—(हिं. स्त्री.) देखें 'पी'।
पहचनवाना—(हिं. क्रि. स.) पहचानने का काम कराना।
पहचान—(हिं. स्त्री.) पहचानने की क्रिया या भाव, पहचानने के चिह्न, परिचय, जान-पहचान, लक्षण, परखने की क्रिया या भाव, किसी की योग्यता, गुण आदि जानने की क्रिया या भाव।
पहिचानना—(हिं. क्रि. स.) किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते ही जान लेना कि वह कौन व्यक्ति या वस्तु है, विवेक करना, चीन्हना, किसी वस्तु का गुण-दोष जानना, किसी वस्तु की आकृति, रूप, रंग, आदि देखकर उससे परिचित होना, अन्तर समझना।
पहटना—(हिं. क्रि. स.) भगाने अथवा पकड़ने के लिये किसी का पीछा करना, खदेड़ना, किसी शस्त्र की धार पैनी करना।
पहटा—(हिं. पुं.) देखें 'पाटा'।
पहनना—(हिं. क्रि. स.) परिधान करना, शरीर पर धारण करना।
पहनवाना—(हिं. क्रि. स.) पहनाने का काम किसी दूसरे से कराना।
पहनवाई—(हिं. स्त्री.) पहनने की क्रिया या भाव, पहनान का शुक।
पहनाना—(हिं. क्रि. स.) किसी के शरीर पर वस्त्र, आभूषण आदि धारण कराना।
पहनवा—(हिं. पुं.) परिधेय, पहनने के मुख्य वस्त्र, वे वस्त्र जो खास अवसर पर पहने जाते ह, पहनने का ढंग।
पहपट—(हिं. पुं.) स्त्रियों के गाने का एक प्रकार का गीत, कोलाहल, गुप्त रूप से की हुई निन्दा, छल, ठगी, अपमान की चर्चा।
पहपटबाज—(हिं. पुं.) कोलाहल करनेवाला, छली, निन्दक।
पहपटबाजी—(हिं. स्त्री.) झगड़ालुपन, छल।
पहपटहाई—(हिं. स्त्री.) झगड़ा करानेवाली।
पहर—(हिं. पुं.) युग, समय, दिन-रात का आठवाँ भाग, तीन घंटे का समय।
पहरना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'पहनना'।
पहरा—(हिं. पुं.) रखवाली करने का प्रबंध, चौकी, रक्षकगण, चौकीदारों का समुदाय, रखवालों की नियुक्ति, पहरेदारों का तीन-तीन घंटे पर बदला जाना, अभियुक्त को बन्द करने का घर, रक्षक का रात के समय भ्रमण या चक्कर, युग,

समय, चौकीदार का संकेत-शब्द, किसी के आने का शुभ या अशुभ फल, पहरे में रहने की स्थिति; (मुहा.) — देना — चौकसी करना; बदलना—नये पहरेदार की नियुक्ति होना या करना; —झूठाना—किसी व्यक्ति या वस्तु की रक्षा के लिये प्रहरी नियुक्त करना; पहरे में रखना—कैद रखना।
पहराइट—(हिं. पुं.) पहरा देनेवाला।
पहराना—(हिं. क्रि.) देखें 'पहनाना'।
पहरावनी—(हिं. स्त्री.) वह पहिनावा जिसको कोई बड़ा अपने से छोटे को दे, खिलवत।
पहरावा—(हिं. पुं.) देखें 'पहनवा'।
पहरी—(हिं. पुं.) चौकीदार, प्रहरी।
पहखा, पहख—(हिं. पुं.) पहरा देनेवाला, रक्षक, संतरी, चौकीदार।
पहल—(हिं. पुं.) किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई के कोनों या रेखाओं से विभक्त समतल अंश, वगल, पहलू, गदा आदि में की रूई की दबी हुई तह, जमा हुआ ऊन, परत, तह, किसी कार्य का आरंभ, छड़।
पहलदार—(हिं. वि.) जिसमें पहल हों, जिसमें चारों ओर अलग-अलग वंटी हुई सतहें हों।
पहलनी—(हिं. स्त्री.) कोंठे को गोल करने का सोनारों का एक अस्त्र।
पहला—(हिं. वि.) जो क्रम में प्रथम हो, आरंभ का (पुं.) जमी हुई पुरानी रूई, पहल।
पहलू—(फा. पुं.) पार्श्व, वगल, बाजू, किनारा, दिशा, ओर, तरफ, करवट, पक्ष।
पहले—(हिं. अव्य.) आरंभ में, पूर्व काल में, बीते समय में, अगले समय में, स्थिति या क्रम में प्रथम, आगे।
पहलेज—(हिं. पुं.) एक प्रकार का खरबूजा जो लंबोतरा होता।
पहले-पहल—(हिं. अव्य.) सर्वप्रथम, पहली बार।
पहलौठा, पहलौठा—(हिं. वि.) प्रथम गर्म-जात, पहिली बार के गर्म से उत्पन्न।
पहलौठी, पहलौठी—(सं. स्त्री.) प्रथम प्रसव, पहले-पहल बच्चा जनना।
पहाड़—(हिं. पुं.) प्राकृतिक कारणों से बना हुआ पत्थर, चूना, मिट्टी आदि की चट्टानों का ऊँचा तथा बड़ा समूह, पर्वत, गिरि, किसी वस्तु का भारी ढेर, दुःसाध्य अथवा अति क्लिष्ट कार्य, बहुत बड़ी और भारी वस्तु, वह जिससे निस्तार न हो सके; (मुहा.) —उठाना—कोई बहुत बड़ा काम अपने ऊपर लेना; —टूटना—एकाएक कोई

वड़ा संकट आ पड़ना;—से टक्कर लेना—
अपने से अधिक बलवान् से भिड़ना ।
पहाड़ा—(हि.पुं.) किसी अंक के एक से लेकर
दस तक के गणनफलों की क्रमागत सूची ।
पहाड़िया—(हि. वि.) देख 'पहाड़ी' ।
पहाड़ी—(हि. वि.) पहाड़ पर रहनवाला,
पहाड़-संबंधी; (स्त्री.) छोटा पहाड़,
पहाड़ी लोंगो के गाने की एक धुन, संपूर्ण
जाति की एक प्रकार की रागिनी ।
पहार—(हि. पुं.) देखें 'पहाड़' ।
पहारी—(हि. वि.) देखें 'पहाड़ी' ।
पहिचानना—(हि. क्रि.स.) देख 'पहचानना' ।
पहिती—(हि. स्त्री.) पकायी हुई दाल ।
पहिनना—(हि. क्रि. स.) देखें 'पहनना' ।
पहिनाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'पहनाना' ।
पहिनानावा—(हि. पुं.) देखें 'पहनावा' ।
पहियाँ—(हि. अव्य.) देखें 'पहें' ।
पहिया—(हि.पुं.) गाड़ी, इंजन अथवा यन्त्र
में लगा हुआ लकड़ी या लोहे का चक्का,
किसी यन्त्र का वह चक्राकार भाग जो
अपनी घुरी पर घूमता हो, चक्र, चक्का ।
पहिरना—(हि. क्रि. स.) देखें 'पहनना' ।
पहिराना—(हि. क्रि. स.) देखें 'पहनाना' ।
पहिरावना—(हि. क्रि.स.) देखें 'पहनाना' ।
पहिरावनि, पहिरावनी—(हि. स्त्री.) देखें
'पहनाना' ।
पहिला—(हि.वि.स्त्री.) प्रथम-प्रसूता, पहले-
पहल ब्याई हुई; (वि.पुं.) देखें पहला, प्रथम ।
पहिले—(हि. अव्य.) आरंभ में ।
पहिलौठा—(हि. वि.) देखें 'पहलौठा' ।
पहिलौठी—(हि. वि.) देख 'पहलौठी' ।
पहोति—(हि. स्त्री.) देखें 'पहिती' ।
पहुँच—(हि. स्त्री.) किसी स्थान तक अपने
को ले जाने की क्रिया या भाव, किसी
स्थान तक की गति, पैठ, प्रवेश, समाई,
तात्पर्य, समझने की शक्ति, जानकारी
की सीमा, परिचय, किसी स्थान तक का
लगातार फैलाव, पकड़, दौड़ ।
पहुँचना—(हि. क्रि. अ.) गति द्वारा किसी
स्थान में उपस्थित होना, एक अवस्था
से दूसरी अवस्था को प्राप्त करना, तुल्य
होना, अनुभूति होना, समझने में समर्थ
होना, प्राप्त होना, मिलना, प्रविष्ट
होना, पैठना, घुसना, गूढ़ अर्थ को जान
लेना, कहीं तक फैलना; पहुँचा हुआ—
सिद्ध पुरुष, ज्ञानी; पहुँचनेवाला—
गुप्त बातों का जानकार ।
पहुँचा—(हि. पुं.) अग्र-व्राह्म और हथेली के
बीच का भाग, मणिवन्ध, कलाई, गट्टा ।
पहुँचाना—(हि. क्रि. स.) किसी निर्दिष्ट

स्थानतक उपस्थित करना या ले जाना,
अनुभव कराना, घुसाना, किसी को किसी
विशेष स्थिति में ले जाना, अकेलापन
मिटाने के लिये किसी के साथ कहीं पर
जाना, प्रविष्ट कराना, पैठाना, परिणाम
के रूप में प्राप्त कराना ।
पहुँची—(हि. स्त्री.) हाथ की कलाई पर
पहिनने का एक गहना ।
पहुनई—(हि. स्त्री.) देखें 'पहुनाई' ।
पहुना—(हि. पुं.) देखें 'पाहुना' ।
पहुनाई—(हि. स्त्री.) अतिथि के रूप में
कहीं जाना या आना, अतिथि-सत्कार ।
पहुनी—(हि. स्त्री.) देखें 'पहुनाई' ।
पहुनी—(हि. स्त्री.) वह पच्चड़ या फस्ती
जिसको बढई लकड़ी चीरते समय काठ
में ठोक देते हैं ।
पहुय—(हि. पुं.) पुष्प, फूल ।
पहुमी—(हि. स्त्री.) पृथ्वी ।
पहुरी—(हि. स्त्री.) संगतराश की मठा-
रने की टाँकी ।
पहूला—(हि.स्त्री.) कुमुदनी, कुई का फूल ।
पहेरी, पहेली—(हि. स्त्री.) किसी वस्तु या
विषय का इस प्रकार वर्णन जो किसी
अन्य वस्तु या विषय का वर्णन जान
पड़ता और जो बहुत विचार करने पर
समझा जा सकता हो, समस्या, बुझावल,
फेरवट की बात; (मुहा.)—बुझावल-
फेरवट की बात करना ।
पह्लव—(सं.पुं.) इस जाति के लोग पहिले
क्षत्रिय थे जो बाद में मुसलमान हो गये,
एक प्राचीन जाति, पारसी या ईरानी जाति ।
पह्लवी—(हि.स्त्री.) ईरान राज्य की प्राचीन
भाषा ।
पह्लिका—(सं. स्त्री.) जलकुंभी ।
पाँ, पाँड़—(हि. पुं.) पद, पाँव, पैर ।
पाँड़ता—(हि. पुं.) देखें 'पाँयता' ।
पाँड़—(हि. पुं.) पद, पाँव, पैर ।
पाँक—(हि. पुं.) पंक, कर्दम, कीचड़ ।
पाँका—(हि. पुं.) देखें 'पाँक' ।
पाँख—(हि. पुं.) पंख, पर ।
पाँखड़ी—(हि. स्त्री.) देखें 'पँखड़ी' ।
पाँखी—(हि.स्त्री.) फतिगा, चिड़िया, पक्षी ।
पाँखुरी—(हि. स्त्री.) देखें 'पखुड़ी' ।
पाँग—(हि. पुं.) गंगवारार, कछार ।
पाँगल—(हि. पुं.) उष्ट्र, ऊँट ।
पाँगा, पाँगानोन—(हि. पुं.) समुद्र के जल
से निकाला हुआ नमक ।
पाँच—(हि. वि.) जो गिनती में चार और
एक हो; (पुं.) चार और एक की संख्या,
५, अनेक मनुष्य, बहुत से लोग, जाति के

प्रमुख लोग, पंच; (मुहा.) पाँचों
अँगुलियाँ घी में होना—सब प्रकार का
सुख मिलना; पाँचों सवारों में नाम
लिखाना—बड़े-बड़े लोगों में अपनी
गिनती करना ।
पाँचक—(हि. पुं.) देखें 'पंचक' ।
पाँचजन्य—(हि. पुं.) देखें 'पंचजन्य',
विष्णु के बजाने का शंख, अग्नि ।
पाँचभौतिक—(हि. पुं.) देखें 'पंचभौतिक',
पंचतत्व का बना हुआ शरीर ।
पाँचर—(हि. वि.) कोलू के बीच में जड़ा
हुआ लकड़ी का टुकड़ा ।
पाँचवाँ—(हि. वि.) जो क्रम में पाँच के
स्थान पर हो ।
पाँचा—(हि. पुं.) किसानों की घास-भूसा
हटाने की फरुही ।
पाँचाल—(हि.पुं.) पंचाल; (वि.) पंचाल
देश का, पंचाल देश-संबंधी ।
पाँचालिका—(हि. स्त्री.) देखें 'पाँचाली',
कपड़े की बनी हुई पुतली, गुड़िया ।
पाँची—(हि. स्त्री.) तालाव में होनेवाली
एक प्रकार की घास ।
पाँचे—(हि. स्त्री.) किसी पक्ष की पाँचवीं
तिथि, पंचमी ।
पाँजना—(हि. क्रि. स.) टीन, लोहे, पीतल
आदि के टुकड़ों को टाँका लगाकर
जोड़ना, झालना ।
पाँजर—(हि. पुं.) पार्श्व और कमर के
बीच का वह भाग जिसमें पसलियाँ
होती हैं, छाती के आस-पास का भाग,
पसली, पार्श्व, सामीप्य ।
पाँजी—(हि. स्त्री.) नदी का इतना सूख
जाना कि उसको हलकर पार किया जा सके ।
पाँझ—(हि. वि.) (नदी) जो 'पाँजी' हो ।
पाँडक—(हि. पुं.) देखें 'पंडुक' ।
पाँडर—(सं. पुं.) गैरिक, गेरू, एक प्रकार
का पक्षी, पानड़ी; (वि.) सफेद रंग का ।
पाँडव—(सं. पुं.) पाण्डु राजा के युधि-
ष्ठिर आदि पाँच पुत्र;—नगर—(पुं.)
दिल्ली का प्राचीन नाम ।
पाँडयापन—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण ।
पाँडविक—(सं. पुं.) काली गौरैया ।
पाँडवीय—(सं. वि.) पाँडव-सम्बन्धी ।
पाँडवेय—(सं. पुं.) अभिमन्यु के पुत्र राजा
परीक्षित, पाँडव ।
पाँडित्य—(सं. पुं.) त्रिदत्ता, पंडिताई ।
पाँडु—(सं. पुं.) पटोल, परवल, हलका
पीला रंग, एक प्राचीन राजा, सफेद रंग,
सफेद हाथी, एक रोग जिसमें पित्त के
विकार से शरीर पीला पड़ जाता है,

कामला रोग का एक भेद, एक प्राचीन देश का नाम; -कंठक-(पुं.) वषामाग, विचड़ा; -कंवल-(पुं.) एक प्रकार का पत्थर; -क-(पुं.) पांडु राजा, परवल; -तरु-(पुं.) धव का पेड़; -ता-(स्त्री.), -त्व-(पुं.) नीलापन; -नाग-(पुं.) पुद्गाग वृक्ष, सफेद हाथी, सफेद रंग का साँप; -पुत्र-(पुं.) पांडु के पुत्र, पांडव; -भाव-(पुं.) देखें 'पांडुता'; -सूक्तिका-(स्त्री.) रामरज, पीली मिट्टी; -रंग-(पुं.) एक प्रकार की घास; -र-(पुं.) सफेद रंग, कामला रोग, धव का वृक्ष, खड़िया, कबूतर, बगला, श्वेत कुष्ठ; (वि.) पीला, सफेद; -०त्ता-(स्त्री.) सफेदी; -रा-(स्त्री.) मापपथी, ककड़ी; -राग-(पुं.) दमनक, दौना; -०प्रिय-(पुं.) मौलसिरी का पेड़; -रेक्षु-(पुं.) एक प्रकार की सफेद जख; -रोग-(पुं.) कामला रोग; -लिपि, -लेख-(पुं.) लेख आदिका हस्तलिखित रूप; -लोमा-(वि.) जिसके रोएँ सफेद हों; -शमिला-(स्त्री.) द्रौपदी।
 पाँडे-(हि. पुं.) कान्यकुब्ज, सरयूपारी तथा गुजराती ब्राह्मणों की एक शाखा, पंडों की एक शाखा, पण्डित, विद्वान्, शिक्षक, रसोई बनानेवाला, ब्राह्मण।
 पाँडेय-(हि. पुं.) देखें 'पाँडे'।
 पाँति-(हि. स्त्री.) पंगत, पंक्ति, पाँत, समूह, किसी जाति के लोग जो एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।
 पाँथ-(सं. पुं.) पथिक; (वि.) विद्योगी, विरही; -निवास-(पुं.) पथिकों के रहने का स्थान, चट्टी; -शाला-(स्त्री.) चट्टी
 पाँथे-(हि. पुं.) पाद, पैर, चरण।
 पाँथता-(हि. पुं.) साट या पलंग का उत्त ओर का भाग जिस ओर पैर किया जाता है, पैताना।
 पाँव-(हि. पुं.) पाद, पर, पावें।
 पाँवड़ी-(हि. स्त्री.) सड़ाई।
 पाँवर-(हि. वि.) देखें 'पावर'।
 पाँवरी-(हि. स्त्री.) तोपान, सीढ़ी, जूता, पैर रखने का स्थान, पीरी, दालान, बँठान।
 पाँवर- (सं. पुं.) रेह से निकाला हुआ नमक।
 पाँवु-(सं. पुं.) घूलि, रज, बालू, एक प्रकार का कपूर, गोबर की मार।
 पाँवुता-(सं. पुं.) केवड़े का पीला।
 पाँवुवर्ण-(सं. पुं.) ओंका।
 पाँवुज-(सं. पुं.) नमक की बोली मिट्टी से मिलता हुआ हो।
 पाँवुय- (सं. पुं.) मूला का भाग।

पाँवुभव-(सं. पुं.) देखें 'पाँगा'।
 पाँवुलवण-(सं. पुं.) पाँगा नमक।
 पाँवुल-(सं. वि.) व्यभिचारी, लंपट, घूल से ढपा हुआ; (पुं.) शिव, महादेव।
 पाँवुला-(सं. स्त्री.) कुलटा, रजस्वला, केतकी, मूमि।
 पाँस-(हि. स्त्री.) घराब निकाला हुआ महुआ, खाद, उफान जो किसी अन्न, फल आदि को सड़ाने पर उठता है।
 पाँसना-(हि. क्रि. स.) खेत में खाद डालना।
 पाँसा-(हि. पुं.) हूड़ी या हाथी-दाँत के बने हुए चौसर खेलने के चौकोर टुकड़े; (मुहा.)-पलटना-किसी स्थिति का विपर्यय होना।
 पाँसी-(हि. स्त्री.) मूसा आदि वाँघने का जाल।
 पाँसु-(सं. पुं.) घूलि, रज; -क-(पुं.) घूलि, पाँगा नमक; -का-(स्त्री.) रजस्वला स्त्री; -कुली-(स्त्री.) राजमार्ग, चौड़ी सड़क; -रुत-(वि.) जो घूल हो गया हो; -शार-(पुं.) पाँगा नमक; -सुर-(पुं.) घोंड़े के सुर का एक रोग; -चंदन-(पुं.) शिव, महादेव; -चामर-(पुं.) तंबू, प्रशंसा, घूल का ढेर; -जालिक-(पुं.) विष्णु का एक नाम; -पत्र-(पुं.) बयुए का साग; -मिका-(स्त्री.) धव का पेड़।
 पाँसुर-(सं. पुं.) दंशक, उँस, खंज, लंगड़ा।
 पाँसुरी-(हि. स्त्री.) देखें 'पसली'।
 पाँसुल-(सं. पुं.) शिव, महादेव, दूसरे की स्त्री से प्रेम करनेवाला, केतकी वृक्ष।
 पाँसुला-(सं. स्त्री.) बुलटा, रजस्वला, केतकी।
 पाँही-(हि. अव्य.) समीप, निकट, पास।
 पाँह-(हि. पुं.) देखें 'पाद', पावें।
 पाइक-(हि. पुं.) देखें 'पायक'।
 पाइतरी-(हि. स्त्री.) चारपाई का पैताना।
 पाइरा-(हि. पुं.) घोंड़े के जीन में लगी हुई रकाम।
 पाइल-(हि. स्त्री.) देगें 'पायल'।
 पाई-(हि. स्त्री.) एक पैसा, एक छोटी गुन जो एक पैस में तीन होती थी, छोटी बोधी लकीर जो किसी संख्या के अंगों लिखने से चतुर्थांश प्रकट करती है, रिचकों के आसपास रखने की लिखाई, पूर्ण निराम, योत्सव में गी-गी-होटी गड़ी रखा, एक की सजा का एक पैसा, घोंड़े का एक रोग, अनामसुका मारा, खेत का बना हुआ एक टाँचा जिसे परतने गाँजे जाने हैं, छोटे के चिमे हुए

टाइज, घेरा दावते हुए नाचने की क्रिया।
 पाईता-(हि. पुं.) एक वर्षादस का नाम।
 पावें-(हि. पुं.) देखें 'पाँव'।
 पाक-(सं. पुं.) पकाने की क्रिया, रीचना, रसोई, खावे हुए पदार्थ को पनाने की क्रिया, एक अमुर जिसकी उन्न ने मारा था, नय, बुझाने में वालों का पकना, परिणति, दूध पीनेवाला बच्चा, चांगनी में पकाई हुई धोपध, धातु में पिघलाने के लिये पकाई हुई गीर; (फा. वि.) पवित्र, विमुक्त, निर्दोष, निष्कलंक, शालिय; पाक-साफ़-(वि.) पाक।
 पाककृष्ण-(सं. पुं.) करंदा का पत्त।
 पाकठ-(हि. वि.) पका हुआ, पुराना अनुभवों, बलवान।
 पाकड़-(हि. पुं.) देखें 'पाकर'।
 पाकट्टिप-(सं. पुं.) पाकमासन, रत्न।
 पाकना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'पकना'।
 पाकपात्र-(सं. पुं.) भोजन पकाने का पात्र।
 पाकपुटी-(सं. स्त्री.) कुम्हार का आधा।
 पाकफल-(सं. पुं.) करंदा।
 पाकभांड-(सं. पुं.) वह पात्र जिसमें कुछ पकाया या रखा जाय।
 पाकयज्ञ-(सं. पुं.) वृषोत्तमों तथा गृह प्रतिष्ठा आदि का हुक्म जिसमें गीर की आहुति दी जाती है, पंच महायज्ञों के अन्तर्गत वैश्वदेवहोम, बलिहोम, निर्याध्या और अतिथि भोजन—ये चार प्रकार के महायज्ञ।
 पाकर-(हि. पुं.) समस्त भारतवर्ष में होनेवाला एक वृक्ष जो पंचपटों में से एक है।
 पाकरजन-(सं. पुं.) तेजपत्र, गेजस्ता।
 पाकरिपु-(सं. पुं.) उन्न का एक नाम।
 पाकरिल-(सं. स्त्री.) ककड़ी, फल जसोभी।
 पाकशाला-(सं. स्त्री.) रसोई बनाने या परा पाकमासन-(सं. पुं.) उन्न।
 पाकशास्त्रि-(सं. पुं.) उन्न के पुं।
 पाकनुपज-(सं. स्त्री.) मरिचा मिट्टी।
 पाकस्वली-(सं. स्त्री.) उन्न से बना पकाने का भाग या भाग का भाग होता है।
 पाका-(हि. वि.) देखें 'पाका'।
 पाकापार-(सं. पुं.) रसोईर।
 पाकातिमाद-(सं. पुं.) पाँसुर रोग का एक भेद।
 पाकाति-(सं. पुं.) सारपाय, रत्न।
 पाकिस्तान-(फा. पुं.) उन्न का भाग, उन्न का भाग जो पकाने के लिये उपयोग किया जाता है, उन्न का भाग जो पकाने के लिये उपयोग किया जाता है, उन्न का भाग जो पकाने के लिये उपयोग किया जाता है।

पाकिस्तानी—(फा. वि.) पाकिस्तान का या संबंधी; (पुं.) पाकिस्तान का निवासी ।
 पाकु—(स. वि.) रसोई बनानेवाला ।
 पाकेट—(अं. पुं.) जेब, खलीता; —मार—(पुं.) जेब काटकर रकम चुरानेवाला चोर; —मारी—(स्त्री.) पाकेटमार का पेशा; (मुहा.)—गरम करना—भूस देना या लेना ।
 पाक्य—(सं. पुं.) काला नमक, यवक्षार; (वि.) पचने योग्य, पाचनीय; —क्षार—(पुं.) जवाखार, शोरा; —ज—(पुं.) काच लवण ।
 पाक्या—(सं. स्त्री.) सज्जी, जवाखार ।
 पाक्षायण—(सं. वि.) पक्ष में एक वार होनेवाला ।
 पाक्षिक—(सं. वि.) किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष करनेवाला, पक्षपाती, पक्षियों को मारनेवाला, जो प्रति पक्ष में एक वार हो, पक्ष या पक्षवाड़े से सम्बन्ध रखनेवाला, वैकल्पिक ।
 पाखंड—(हिं. पुं.) वेद-विरुद्ध आचरण, वह व्यवहार जो किसी को धोखा देने के लिये किया जाय, कपट, छल, वह भक्ति या उपासना जो किसी को दिखलाने के लिये की जाय, ढोंग, ढकोसला, आडंबर, नीचता; (मुहा.)—फैलाना—किसी को छलने का उपाय करना ।
 पाखंडी—(हिं. वि.) वेद-विरुद्ध आचरण करनेवाला, ढोंगी, धूर्त, कपटी, धार्मिकता का दिखावटी प्रदर्शन करनेवाला ।
 पाख—(हिं. पुं.) महीने का आधा भाग, पंद्रह दिन का समय, पखवाड़ा, मकान की चौड़ाई की भीतों के वे भाग जो ऊँचे किये होते हैं और जिन पर बड़े रखे जाते हैं ।
 पाखर—(हिं. स्त्री.) राल चढ़ाया हुआ टाट, लोहे की झूल जो युद्ध के समय हाथी या घोड़े की पीठ पर डाल दी जाती थी ।
 पाखरी—(हिं. स्त्री.) टाट की बनी हुई बड़ी चादर जिसको बेलगाड़ी में रखकर अनाज, भूसा आदि लादा जाता है ।
 पाखा—(हिं. पुं.) कोना, छोर, देख 'पाख' ।
 पाखान—(हिं. पुं.) देखें 'पापाण', पत्थर ।
 पाग—(हिं. स्त्री.) पगड़ी; (पुं.) वह शीरा या चाशनी जिसमें डुबोकर मिठाइयाँ रखी जाती हैं; चाशनी में पकाई हुई औषध, फल आदि ।
 पागना—(हिं. क्रि.स.) चाशनी में लपेटना या सानना ।

पागल—(सं. वि.) ऐसा मानसिक रोगी जिसकी बुद्धि और इच्छा-शक्ति में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं और जिसको कर्तव्याकर्तव्य का ध्यान नहीं रहता, उन्मत्त, वावला, विक्षिप्त, मूर्ख; —खाना—(हिं. पुं.) वह स्थान जहाँ पागलों को रखकर उनकी चिकित्सा की जाती है; —पन—(हिं. पुं.) उन्माद, वावलापन, मूर्खता, चित्तविभ्रम ।
 पागली—(हिं. स्त्री.) देखें 'पगली' ।
 पागुर—(हिं. पुं.) देखें 'जुगाली' ।
 पाचक—(सं. वि.) पकाने या पचानेवाला, पाचन-शक्ति को बढ़ानेवाला (औषध), (पुं.) रसोईदार, पित्त में रहनेवाली पाचन की अग्नि ।
 पाचन—(सं. पुं.) प्रायश्चित्त, भोजन को पचानेवाली औषध, खट्टा रस, अग्नि, आग; (वि.) पचानेवाला ।
 पाचनक—(सं. पुं.) सोहागा ।
 पाचन-शक्ति—(सं. स्त्री.) भोजन को पचाने की शक्ति ।
 पाचना—(हिं. क्रि. स.) अच्छी तरह से पकाना ।
 पाचनीय—(सं. वि.) पचने या पकाने योग्य ।
 पाचर—(हिं. पुं.) देखें 'पच्चर' ।
 पाचल—(सं. पुं.) अग्नि, वायु ।
 पाचिका—(सं. स्त्री.) रसोई बनानेवाली स्त्री
 पाची—(सं. स्त्री.) देखें 'पच्ची' ।
 पाच्छा, पाच्छाह—(हिं. पुं.) राजा ।
 पाच्य—(सं. वि.) पाचनीय, जो अवश्य पचाया या पकाया जा सके ।
 पाछ—(हिं. स्त्री.) जन्तु या पौधे के अंग पर छुरी की धार से काटकर बनाया हुआ हलका धाव, रस निकालने के लिये वृक्ष की डाल या तने पर बनाया हुआ चीरा, अफीम निकालने के लिये पोस्ते के डोंड़े पर बनाया हुआ चीरा; (पुं.) पिछला भाग; (अव्य.) पीछे की ओर ।
 पाछना—(हिं. क्रि. स.) जन्तु या पौधे के अंग पर छुरी की धार से इस प्रकार मारना कि छुरी गहरी न बैसे और केवल ऊपर का रक्त या रस निकल आवे ।
 पाछल—(हिं. वि.) देखें 'पिछला' ।
 पाछा—(हिं. पुं.) देखें 'पीछा' ।
 पाछिल—(हिं. वि.) देखें 'पिछला' ।
 पाछी, पाछु, पाछै—(हिं. अव्य.) पीछे की ओर ।
 पाज—(हिं. पुं.) देखें 'पांजर' ।
 पाजरा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पौधा जिसकी छाल से रंग निकाला जाता है ।

पाजामा—(हिं. पुं.) देखें 'पायजामा' ।
 पाजी—(हिं. पुं.) पैदल सेना का सिपाही, प्यादा, चौकीदार; (वि.) दुष्ट, नीच, लुच्चा; —पन—(पुं.) दुष्टता, नीचता ।
 पाटंबर—(हिं. पुं.) रेशमी वस्त्र ।
 पाट—(हिं. पुं.) पटसन का पौधा, वस्त्र, कपड़ा, चक्की का एक पल्ला, धोबी का कपड़ा पटककर धोने का पत्थर, पल्ला, पीढ़ा, विस्तार, फैलाव, चौड़ाई, रेशम, बटा हुआ रेशम, राज्यशासन, सिंहासन, एक प्रकार का कीड़ा ।
 पाटक—(सं. वि.) छेदक, मेदक ।
 पाटकिरण—(सं. पुं.) शुद्ध जाति का एक राग ।
 पाटच्चर—(सं. पुं.) चोर ।
 पाटन—(हिं. स्त्री.) पाटने की क्रिया या माव, पटाव, कच्ची या पक्की छत, नगर, पत्तन, सर्प का विष उतारने का एक मन्त्र जो सर्प-दण्ड मनुष्य के कान में चिल्लाकर पढ़ा जाता है ।
 पाटना—(हिं. क्रि.स.) गड्डे या नीचे स्थान को भरकर उसके आस-पास के धरातल के बराबर कर देना, सन्तुष्ट करना, सीचना, लकड़ी के बल्ले आदि विछाकर छत का आधार बनाना, ढेर लगा देना, दो भीतों के आरपार छाजन टेकने के लिए बड़े बल्ले आदि रखना ।
 पाटमहिषी—(हिं. स्त्री.) प्रधान रानी, पटरानी ।
 पाटरानी—(हिं. स्त्री.) देखें 'पटरानी' ।
 पाटल—(सं. पुं.) पाटली का फूल, गुलाबी रंग, पाठर का वृक्ष, रोहिष घास ।
 पाटलकीट—(सं. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा ।
 पाटला—(सं. स्त्री.) पाटल का वृक्ष, लाल रंग का पौधा, दुर्गा; (हिं. पुं.) भारत का शुद्ध किया हुआ बढ़िया सीना ।
 पाटलावती—(सं. स्त्री.) दुर्गा ।
 पाटलिपुत्र, पाटलीपुत्र—(सं. पुं.) मगध या विहार के प्रसिद्ध नगर का प्राचीन नाम, (आज-कल यह पटना के नाम से प्रसिद्ध है) ।
 पाटली—(सं. स्त्री.) करमी या कटभी वृक्ष, पटना नगर की अघिष्ठात्री देवी; (हिं. स्त्री.) नाव में लगाने की लकड़ी, बल्ली ।
 पाटलोपल—(सं. पुं.) एक प्रकार का गुलाबी रत्न ।
 पाटव—(सं. पुं.) पटुता, निपुणता, चतुराई, दृढ़ता, आरोग्य ।
 पाटविक—(सं. वि.) पटु, धूर्त ।
 पाटवी—(हिं. वि.) पटरानी से उत्पन्न, रेशमी (वस्त्र) ।

पाटसन—(हिं. पुं.) पटसन, पटुआ ।
 पाटहिका—(सं. स्त्री.) गुंजा, घुंघची;
 (पुं.) दुन्दुभी बजानेवाला ।
 पाटा—(हिं. पुं.) पीड़ा, वह आधार-स्थान
 जो दो भीतों के बीच में बाँस आदि,
 धोबी का पाट देकर बनाया जाता है ।
 पाटिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का पाँवा ।
 पाटी—(सं. स्त्री.) अनुक्रम, रीति, परि-
 पाटी, श्रेणी, पंक्ति; जोड़, बाकी, गुणा,
 भाग, अंकगणित; (हिं. पुं.) वह
 लकड़ी की पट्टी जिस पर बालकों को
 विद्याभ्यास कराया जाता है, पटिया,
 पाठ, खाट की लम्बाई के बल की दो
 लकड़ियाँ, शिला, जयन्ती, चट्टान, माँग
 के दोनों ओर के सँवारे हुए बाल ।
 पाटीगणित—(सं. पुं.) गणित-शास्त्र, अंक-
 विद्या ।
 पाटीर—(सं. पुं.) एक प्रकार का चंदन ।
 पाटनी—(हिं. पुं.) वह मल्लाह जो किसी
 घाट का ठेकेदार हो ।
 पाटच—(सं. पुं.) पटसन, पटुआ ।
 पाठ—(सं. पु.) शिष्य का अध्यापन, पढ़ना,
 पढ़ने की क्रिया, किसी धर्म-पुस्तक को
 नियमपूर्वक पढ़ने की क्रिया, किसी
 पुस्तक का वह अंश जो एक बार पढ़ा
 जाय, शब्दक्रम, अध्याय, किसी पुस्तक
 का परिच्छेद; (मुहा.) —पढ़ाना—
 स्वार्थसाधन के लिये किसी को बहकाना;
 उलटा पाठ पढ़ाना—उलटी-पलटी बातें
 समझा देना ।
 पाठक—(सं. पुं.) उपाध्याय, पढ़ानेवाला,
 धर्मोपदेशक, कथा वाचनेवाला, सारस्वत,
 गौड़, सरयूपारी तथा गुजराती ब्राह्मणों
 के एक वर्ग का नाम ।
 पाठदोष—(सं. पुं.) पढ़ने का वह ढंग
 अथवा पढ़ने के समय की वह चेट्टा
 जो निन्दित और वर्जित समझी जाती है ।
 पाठन—(सं. पुं.) पढ़ने का ढंग या भाव,
 अध्यापन, पढ़ाना ।
 पाठना—(हिं. क्रि. स.) पढ़ाना ।
 पाठपद्धति, पाठप्रणाली—(सं. स्त्री.) पढ़ने
 की रीति या ढंग ।
 पाठभेद—(सं. पुं.) पाठान्तर, वह भेद जो
 किसी प्राचीन ग्रन्थ की दो प्रतियों के
 पाठ में पाया जाता है ।
 पाठमंजरी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की मैना ।
 पाठशाला—(सं. स्त्री.) पढ़ाने का स्थान,
 विद्यालय, चट्टाला ।
 पाठशालिनी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की मैना ।
 पाठान्तर—(सं. पुं.) किसी प्राचीन पुरातन की

दो प्रतियों के लेख में किसी विशेष स्थान
 पर भिन्नता या पार्थक्य होना, पाठभेद ।
 पाठा—(सं. स्त्री.) पाठा नाम की लता;
 (हिं. पुं.) हृष्टपुष्ट आदमी, जवान और
 मोटा बाल, भेंसा, बकरा आदि ।
 पाठार्यो—(सं. वि.) पढ़नेवाला ।
 पाठालय—(सं. पुं.) पाठशाला, विद्यालय ।
 पाठिका—(सं. स्त्री.) पढ़ानेवाली, पढ़नेवाली ।
 पाठित—(सं. वि.) पढ़ाया हुआ, सिखाया
 हुआ ।
 पाठी—(हिं. पुं.) पाठ करनेवाला, पाठक,
 पढ़नेवाला, चित्रक वृक्ष, चीता ।
 पाठीन—(सं. पुं.) पहिना मछली, गुग्गुलु ।
 पाठय—(सं. वि.) पठनीय, पढ़ (ढ़ा) ने योग्य ।
 पाड़—(हिं. पुं.) घोती, साड़ी आदि का
 किनारा, मचान, पुश्ता, बाँध, लकड़ी का
 बना हुआ ठाट, कटधरा, चह, दो भीतों
 के बीच में बाँस, पटियाँ आदि देकर बनाया
 हुआ आधार, वह पटरा जिस पर अपराधी
 को खड़ा करके फाँसी दी जाती है ।
 पाड़ड़—(हिं. स्त्री.) पाटल नाम का वृक्ष ।
 पाड़ल—(हिं. पुं.) देखें 'पाटल' ।
 पाड़लीपुर—(हिं. पुं.) देखें 'पाटलीपुत्र' ।
 पाड़ा—(हिं. पुं.) नगर का मुहल्ला, टोला ।
 पाड़िनी—(सं. स्त्री.) मिट्टी का पात्र, हाँडी ।
 पाड़—(हिं. पुं.) वह पीड़ा या पाटा जिस
 पर बैठकर सुनार, लोहार या बढ़ई
 काम करते हैं, वह मचान जिस पर बैठ-
 कर किसान अपनी उपज की रखवाली
 करता है, कुएँ के मुँह पर रखी हुई
 लकड़ी, सुनारों का नक्काशी करने का
 एक उपकरण, पाटा, लकड़ी की सीढ़ी ।
 पाड़त—(हिं. स्त्री.) पढ़ने की क्रिया या
 भाव, जो कुछ पढ़ा जाय, मंत्र, जादू ।
 पाड़र—(हिं. पुं.) पाटल का वृक्ष ।
 पाड़ल—(हिं. पुं.) देखें 'पाटल' ।
 पाड़ा—(हिं. पुं.) सफेद चित्तीयुक्त हरित ।
 पाड़ी—(हिं. स्त्री.) सूत की लच्छी,
 यात्रियों को पार उतारने की नाव ।
 पाण—(सं. पुं.) व्यापार, खरीद-विक्री,
 दाँव, प्रशंसा, कर, हाथ ।
 पाणि—(सं. पुं.) हस्त, हाथ, कर, घुंघची
 का वृक्ष, एक कर्प का परिमाण ।
 पाणिक—(सं. वि.) जो मौल लिया गया
 हो; (पुं.) मीदागर, हस्त, हाथ ।
 पाणिकर्ण—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 पाणिकर्मा—(सं. पु.) हाथ से बाजा
 बजानेवाला ।
 पाणिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द ।
 पाणिगृहीत—(सं. वि.) पाणि द्वारा ग्रहण

किया हुआ, विवाहित ।
 पाणिग्रह—(सं. पुं.) विवाह, व्याह ।
 पाणिग्रहण—(सं. पुं.) हिन्दुओं में विवाह
 की वह रीति जिसमें पिता कन्या का
 हाथ वर के हाथ में देता है, विवाह, व्याह ।
 पाणिग्रहणीय—(सं. वि.) विवाह में दिया
 जानेवाला उपहार ।
 पाणिग्रहाह—(सं. पुं.) पाणिग्रहण करने-
 वाला पति ।
 पाणिघ्न—(सं. पुं.) हाथ से बजाने के बाजे,
 गिल्पी, कारीगर ।
 पाणिघात—(सं. पुं.) हाथ से मारने की
 क्रिया, थप्पड़, मुक्का ।
 पाणिज—(सं. पुं.) अँगुली, नख ।
 पाणितल—(सं. पुं.) हाथ का निचला
 भाग, करतल, हथेली, दो तोले के बराबर
 का एक प्राचीन परिमाण ।
 पाणिधर्म—(सं. पुं.) विवाह-संस्कार ।
 पाणिनि—(सं. पुं.) संस्कृत भाषा के सर्व-
 प्रवान तथा सर्व-प्राचीन व्याकरण-शास्त्र
 के रचयिता एक प्रसिद्ध ऋषि ।
 पाणिनीय—(सं. वि.) पाणिनि का कहा
 हुआ, पाणिनि-संबंधी ।
 पाणिनीय दर्शन—(सं. पुं.) पाणिनि का
 अष्टाध्यायी व्याकरण ।
 पाणिपल्लव—(सं. पुं.) हाथ की अँगुलियों ।
 पाणिपीड़न—(सं. पुं.) पाणिग्रहण, विवाह,
 क्रोध, पश्चात्ताप आदि के कारण हाथों
 को परस्पर मलना ।
 पाणिप्रदान—(सं. पुं.) हाथ मारकर बाजी
 लगाना ।
 पाणिवंध—(सं. पुं.) विवाह, व्याह ।
 पाणिभुज—(सं. पुं.) उदुम्बर, गुलर का पेड़ ।
 पाणिसंध—(सं. पुं.) करंज का वृक्ष ।
 पाणिसणिका—(सं. स्त्री.) कलाई पर की
 हड़्डी ।
 पाणिमर्द—(सं. पुं.) करमर्द, करीदा ।
 पाणिमुक्त—(सं. पुं.) भाला ।
 पाणिमूल—(सं. पुं.) बाहुमूल, कलाई ।
 पाणिरह—(सं. पुं.) अँगुली, नख ।
 पाणिरसा—(सं. स्त्री.) हथेली पर की लकीर ।
 पाणिवाद—(सं. वि.) ढोल, मृदंग आदि
 बाजे बजानेवाला, ताली बजाना, हाथ से
 बजानेवाले बाजे, मृदंग, ढोल आदि बाजे ।
 पाणिवादक—(सं. वि.) देखें 'पाणिवाद' ।
 पाणिसंग्रहण—(सं. पुं.) हाथ पकड़ना ।
 पाणी—(हिं. पुं.) देखें 'पाणि' ।
 पाणीकरण—(सं. पुं.) पाणिग्रहण, विवाह ।
 पाण्य—(सं. वि.) स्तुति करने योग्य ।
 पातंगि—(सं. पुं.) अनैश्वर, यम, कर्म, नुर्मल ।

पातंजल—(स. वि.) पतंजलि ऋषि का ; पतंजलि संबंधी; (पुं.) पतञ्जलि मुनि प्रणीत योगदर्शन अथवा व्याकरण का महाभाष्य; —दर्शन—(पुं.) योगदर्शन; —भाष्य—(पुं.) व्याकरण का महाभाष्य नामक ग्रन्थ; —सूत्र—(पुं.) योगसूत्र ।
 पात—(स. पुं.) पतन, गिरने की क्रिया या भाव, खंगोल का वह स्थान जहाँ नक्षत्रों की कक्षाएँ कान्ति-वृत्त को काटकर ऊपर चढ़ती या नीचे उतरती हैं, गिराने की क्रिया या भाव, टूटकर गिरने की क्रिया या भाव, नाश, मृत्यु, उड़ान, उतार; (वि.) बचानेवाला, गिरानेवाला; (हि. पुं.) पत्ता, कान में पहिने का एक गहना ।
 पातक—(सं. पुं.) अध, पाप, दुष्कृत ।
 पातकी—(हि. वि.) पाप करनेवाला, कुकर्म, पापी ।
 पातघाबड़ा—(हि. वि.) वह मनुष्य जो पत्तों के खडकने से डर जाय ।
 पातन—(सं. पुं.) गिराने की क्रिया ।
 पातबंधी—(हि. स्त्री.) वह मानचित्र जिसमें भू-सम्पत्ति की आय और उस पर का देना लिखा होता है ।
 पातर—(हि. वि.) सूक्ष्म, पतला; (स्त्री.) पत्तल, पतुरिया, वेश्या, रंडी ।
 पातराज—(सं. पुं.) एक प्रकार का सर्प ।
 पातल—(हि. वि.) देखें 'पातर', पतला ।
 पातल्य—(स. वि.) रक्षा करने योग्य, पीने योग्य ।
 पातशाह—(हि. पुं.) देखें 'वादशाह' ।
 पातशाही—(हि. स्त्री.) देखें 'वादशाही' ।
 पाता—(हि. पुं.) पत्ता; (सं. वि.) रक्षक, रक्षा करनेवाला ।
 पाताखत—(हि. पुं.) पत्र और अक्षत ।
 पातार—(हि. पुं.) देखें 'पाताल' ।
 पाताल—(सं. पुं.) विवर, गुफा, बिल, बड़वानल, पुराणानुसार पृथ्वीतल के नीचे का सातवाँ लोक, (पाताल सात माने गये हैं, यथा—अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल); मात्रिक छन्द की संख्या, मात्रा आदि जानने का चक्र; —केतु—(पुं.) पाताल में रहनेवाले एक प्रकार के दैत्य; —खंड—(पुं.) पाताल-लोक; —गरुड़ी—(स्त्री.) एक प्रकार की लता, तितलीकी; —निलय—(पुं.) दैत्य, सर्प; —यंत्र—(पुं.) एक प्रकार का यन्त्र जिसके द्वारा धातु की औषधियाँ पिघलाई जाती हैं, (इस यन्त्र में काँच

या मिट्टी के दो पात्रों के मुँह मिलाकर एक के ऊपर दूसरा रखा जाता है और सन्धिस्थान को कपड़ा तथा गीली मिट्टी से बंद कर दिया जाता है।; —वासिनी—(स्त्री.) नागवल्ली लता ।
 पाताली—(हि. स्त्री.) ताड़ के फल का गुदा जिसको लोग खाते हैं ।
 पाति—(सं. पुं.) प्रभु, स्वामी; (हि. स्त्री.) पत्नी, दल, पत्र, चिट्ठी ।
 पातिक—(सं. पुं.) शिशुमार, सूंस नामक जलजन्तु ।
 पातित—(सं. वि.) गिराया हुआ ।
 पातित्य—(सं. पुं.) पतित होने का भाव, गिरावट, अध-पतन, कुमार्गी होने का भाव ।
 पातिली—(सं. स्त्री.) चिड़िया पकड़ने का फंदा, मिट्टी का पात्र, हाँड़ी ।
 पातिव्रत, पातिव्रत्य—(हि., सं. पुं.) स्त्री का पतिव्रता होने का धर्म ।
 पाती—(हि. स्त्री.) मान, प्रतिष्ठा, पत्र, चिट्ठी, पत्नी ।
 पातुक—(सं. वि.) गिरानेवाला; (पुं.) जल-प्रपात, झरना ।
 पातुर, पातुरनी—(हि. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
 पातृ—(सं. पुं.) पापियों का उद्धार करनेवाला ।
 पात्य—(सं. वि.) पतनीय, गिराने योग्य ।
 पात्र—(सं. पुं.) अनेक गुणों से सम्पन्न व्यक्ति, वह वस्तु जिसमें कुछ रखा जाय, भाण्ड, कोश, योग्य व्यक्ति, राजमन्त्री, नदी का पाट, पत्ता, सूवा आदि यज्ञ की सामग्री, आधार, भाजन, नाटक का अभिनेता, नायक या नायिका, नट ।
 पात्रक—(सं. पुं.) छोटी थाली, हाँड़ी, भीख माँगने का पात्र ।
 पात्रट—(सं. पुं.) भिखमंगा; (वि.) दुबला-पतला ।
 पात्रतरंग—(सं. पुं.) ताल देने का एक प्रकार का प्राचीन बाजा ।
 पात्रता—(सं. स्त्री.) पात्रत्व, उपयुक्तता, योग्यता, पात्र का धर्म ।
 पात्रत्व—(सं. पुं.) योग्यता, पात्रता ।
 पात्रदुष्टरस—(सं. पुं.) केशवदास के अनुसार काव्य का वह रसदोष जिसमें कवि जिस वस्तु को जैसा समझना चाहता है उसके विरुद्ध ही रचना में कहा जाता है ।
 पात्रशेष—(सं. पुं.) खाकर छोड़ा हुआ अन्न आदि, उच्छिष्ट, जूठा ।
 पात्रसंचार—(सं. पुं.) भोजन के बाद, जूठे पात्रों को उठाकर अलग रखना ।

पात्रसंस्कार—(सं. पुं.) पात्र की शुद्धि ।
 पात्री—(हि. वि.) जिसके पास सुयोग्य मनुष्य हों; (स्त्री.) छोटा पात्र या बरतन, छोटी भट्ठी ।
 पात्रीय—(सं. वि.) पात्र-सम्बन्धी ।
 पात्र्य—(सं. वि.) जो एक पात्र में खाता हो ।
 पाथ—(सं. पुं.) जल, पानी, सूर्य, अग्नि, अन्न, वायु, आकाश; (हि. पुं.) मार्ग ।
 पाथना—(हि. क्रि. स.) ठोक-पीटकर, सुडौल बनाना, बढ़ाना, पीटना, ठोकना मारना, किसी गीली वस्तु को साँचे में या हाथ से टिकिया आदि के रूप में करना ।
 पाथनाथ, पाथनिधि, पाथस्पति—(सं. पुं.) समुद्र, सागर, वरुण देवता ।
 पाथर—(हि. पुं.) देखें 'पत्थर' ।
 पाथा—(हि. पु.) खलिहात में अन्न नापने का बड़ा टोकरा, कोल्हू हाँकनेवाला, एक प्रकार का अन्न में लगनेवाला कीड़ा ।
 पाथि—(हि. पुं.) समुद्र, आँख, घाव पर की पपड़ी ।
 पाथेय—(सं. पुं.) वह धन जो यात्री मार्ग-व्यय के लिये ले जाता है, सबल, यात्री का रास्ते का कलेवा ।
 पाथेयफ—(सं. वि.) वह जिसके पास मार्ग-व्यय हो ।
 पाथोज—(सं. पुं.) कमल, पद्म ।
 पाथोद—(सं. पुं.) मेघ, बादल ।
 पाथोधर—(सं. पुं.) मेघ, बादल ।
 पाथोधि, पाथोनिधि—(सं. पुं.) समुद्र ।
 पाथ्य—(सं. वि.) आकाश या हवा में रहनेवाला ।
 पाद—(सं. पुं.) चरण, पैर, पाँव, चतुर्थांश, श्लोक का चौथा भाग, पेड़ की जड़, पुस्तक का विशेष अंश, गमन, मयूख, किरण, शिव, चिकित्सा के चार अंग यथा—वैद्य, रोगी, औषध और परिचारक; बड़े पवत के समीप का छोटा पवत, नीचे का भाग; (हि. पुं.) अधो-वायु, गुदा द्वारा निकलनेवाली वायु; —कंदक—(पुं.) नूपुर, पैर में पहनने का एक गहना; —क—(वि.) गमन करने वाला, चलनेवाला; (पुं.) चतुर्थ भाग, छोटा पैर; —गंडीर—(पुं.) श्लिपद रोग; —ग्रंथि—(पुं.) गुल्फ, एड़ी के ऊपर का स्थान, टखना; —ग्रहण—(पुं.) पैर छूकर प्रणाम करना; —ग्राही—(वि.) वह जो पैर छूता हो; —चत्वर—(पुं.) बकरा, पीपल का वृक्ष, बालू का भीटा, पिशुन; —चारी—(पुं.) पदाति, पैदल चलनेवाला; —चिह्न—(पुं.) दोनों पैरों

के चिह्न; -ज- (पुं.) शूद्र; (वि.) जो पैर से उत्पन्न हो; -जल- (पुं.) वह जल जिससे किसी पुज्य के पैर धोये गये हों, पादोदक, तक्र, मट्ठा; -टीका- (स्त्री.) वह टिप्पणी जो किसी पुस्तक के पृष्ठ के नीचे लिखी गई हो; -तल- (पुं.) पैर का तलवा; -त्र, -त्राण- (वि., पुं.) पादरक्षक, जो पैर की रक्षा करे, पादुका, खड़ाऊँ, जूता; -दलित- (वि.) पैर से कुचला हुआ; -दारिका- (स्त्री.) पैर का विवाई नामक रोग; -दाह- (पुं.) पैर के तलवे में जलन होना; -घावन- (पुं.) पैर धोने की क्रिया; -नख- (पुं.) पैर की अँगुलियों के नख; -नालिका- (स्त्री.) पैर में पहिनने का एक गहना; -न्यास- (पुं.) पैर रखना, नाचना; -प- (पुं.) वृक्ष, पेड़, बैठने का पीड़ा; -पद्म- (पुं.) चरणकमल; -पद्धति- (स्त्री.) पगडंडी; -पादा- (पुं.) छोड़े के पिछले पैर बाँधने की रस्सी, पिछाड़ी; -पाश्री- (स्त्री.) शृंखला, सिक्कड़, वेड़ी; -पीठ- (पुं.) पैर का आसन, पीड़ा; -पूरण- (पुं.) किसी कविता के चरण को पूरा करना, वह शब्द या अक्षर जो कविता के पद को पूरा करने के लिये जोड़ा जाय; -प्रक्षलन- (पुं.) पैरों को धोना; -प्रणाम- (.) साष्टाङ्ग दण्डवत्; -प्रतिष्ठान- (पुं.) पुंपादपीठ, पीड़ा; -प्रधारण- (पुं.) पादुका, खड़ाऊँ; -प्रहार- (पुं.) लात मारना, ठोकर मारना; -बंधन- (पुं.) पैर बाँधने की सिकड़ी, वेड़ी; -बद्ध- (वि.) श्लोक के चरण से युक्त; -भाग- (पुं.) पैर का तलवा, चौथाई भाग; -भुज- (पुं.) शिव, महादेव; -मुद्गा- (स्त्री.) पैर का चिह्न; -मूल- (पुं.) पैर का निचला भाग, पहाड़ की तराई; -रक्षक- (वि.) वह जिससे पैरों की रक्षा हो; -रक्षण- (पुं.) पादुका, खड़ाऊँ, जूता; -रज- (पुं.) चरणों की धूल; -रज्जु- (स्त्री.) पैर बाँधने की रस्सी; -रथी- (स्त्री.) पादुका, खड़ाऊँ; -रोह, -रोहण- (पुं.) वर का पेड़; -लेप- (पुं.) पैर में लगाने का आलता, महावर; -वंदन- (पुं.) पैर छूकर प्रणाम करना; -बल्मीक- (पुं.) श्लीपद; -विदारिका- (स्त्री.) छोड़े के पैर का एक रोग; -विन्यास- (पुं.) पैर रखने का ढंग; -वेष्टनिक- (पुं.) पैर में पहिनने का मोजा; -शलाका- (स्त्री.) पैर की पतली हड्डी;

-शाखा- (स्त्री.) पैर की अँगुली; -श्ली- (स्त्री.) कचर; -शुश्रूषा- (स्त्री.) चरणसेवा, पैर दवाना; -शोथ- (पुं.) पैर सूजने का रोग; -शोच- (पुं.) पैर धोना; -स्तंभ- (पुं.) टेक लगाने की लकड़ी; -स्फोट- (पुं.) एक प्रकार का कुण्ठ; -स्वेदन- (पुं.) पैर से पसीना निकलना; -हत- (वि.) चरण द्वारा मारा हुआ; -हर्ष- (पुं.) पैर में झुनझुनी होने का रोग; -हीन- (वि.) जिसके चरण न हों, जिस कविता में तीन ही चरण हों; -हीना- (स्त्री.) आकाशवल्ली।
पादना- (हिं. क्रि. अ.) अपान वायु को गुदा मार्ग से निकालना, गोज करना।
पादविक- (सं. पुं.) पथिक, यात्री।
पादरी- (हिं. पुं.) ईसाई धर्म का पुरोहित जो गिरजाघर में पूजा, जातकर्म आदि संस्कार कराता है।
पादांगद- (सं. पुं.) नूपुर, पैजनी।
पादांत- (सं. पुं.) पाद का अन्त, पाद का अन्तिम भाग, पैर के समीप।
पादांबु- (सं. पुं.) तक्र, मठा।
पादाकुलक- (सं. पुं.) एक प्रकार का मात्रा-वृत्त, चौपाई।
पादाक्रांत- (सं. वि.) पैरों से कुचला हुआ।
पादाग्र- (हिं. पुं.) पैर का पंजा।
पादाघात- (सं. पुं.) पैरों का प्रहार।
पादाति, पादातिक- (सं. पुं.) पैदल सिपाही।
पादानोन- (हिं. पुं.) काला नमक।
पादान्यग- (सं. पुं.) पैर के तलवे में तेल की मालिश।
पादारक- (सं. पुं.) नाव में यात्रियों के बैठने की लकड़ी की पटरी।
पादाध्रं- (सं. पुं.) पाद का अर्ध-भाग, आठवाँ हिस्सा।
पादालिंदी- (सं. स्त्री.) नौका, नाव।
पादानर्त- (सं. पुं.) कुएँ से जल निकालने का यन्त्र, रहट।
पादावसेचन- (सं. पुं.) पैर धोना।
पादाविक- (सं. पुं.) पैदाति, पैदल सिपाही।
पादासन- (सं. पुं.) पाँव रखने का आसन, पीड़ा।
पादी- (हिं. वि., पुं.) पैरवाला (जंतु), पैरवाले प्राणी।
पादीय- (हिं. पुं.) पदवाला, मर्यादावाला।
पादुक- (सं. पुं.) पैदल, चलनेवाला।
पादुका- (सं. स्त्री.) खड़ाऊँ, जूता।
पादुकाकार- (सं. पुं.) चर्मकार, मोची।
पाद्- (सं. पुं.) पादुका, खड़ाऊँ।

पादोदक- (सं. पुं.) वह जल जिससे किसी का पैर धोया गया हो, चरणामृत।
पादोदर- (सं. पुं.) सर्प, साँप।
पाद्य- (सं. पुं.) वह जल जिससे पैर धोया गया हो, पादोदक।
पाद्यक- (सं. पुं.) पैर धोने का जल।
पाद्यार्ध- (सं. पुं.) हाथ-पैर धुलाने का जल, पूजा की सामग्री, पूजा में दिया हुआ घन, भेंट।
पाधा- (हिं. पुं.) आचार्य, उपाध्याय, पण्डित।
पान- (सं. पुं.) पीना, घूँट-घूँट करके गले के नीचे उतारना, मदिरा पीना, पीने का पदार्थ, मद्य पीने का पात्र, रक्षा, नहर, कलवार, निःश्वास, जल, पौसरा, चुंबन, अस्त्र की धार तेज करना; (हिं. पुं.) पत्ता, एक प्रसिद्ध लता जिसके पत्ते पर चूना, खैर तथा सुपारी रखकर बीड़ा बनाकर लोग खाते हैं, ताम्बूल, पान के आकार का गहना, ताश के पत्ते के चार भेदों में से एक, जूते में पान के आकार का रंगीन चमड़ा।
पानकुंभ- (सं. पुं.) जल का कलसा।
पानगोष्ठिका- (सं. स्त्री.) वह स्थान जहाँ तान्त्रिक लोग इकट्ठा होकर मद्य-पान, साधना तथा जप-पूजा करते हैं।
पानड़ी- (हिं. स्त्री.) एक प्रकार की सुगन्धित पत्ती।
पानदान- (हिं. पुं.) वह डब्बा जिसमें पान, खैर, सुपारी, चूना आदि रखा जाता है।
पानदोष- (सं. पुं.) मद्यपान का व्यसन।
पानप- (सं. वि.) मद्य पीनेवाला, पियन्कड़।
पानपत्ता- (हिं. पुं.) तुच्छ उपहार, छोटी-सी भेंट।
पानफूल- (हिं. पुं.) सामान्य भेंट, बड़ी सुकुमार वस्तु।
पानभूमि- (सं. स्त्री.) वह स्थान जहाँ एकत्र होकर शराबी मदिरा पीते हैं।
पानमद- (सं. पुं.) मद्य का नशा।
पानमात्रा- (सं. स्त्री.) सुरापान की औसत मात्रा।
पानविभ्रम- (सं. पुं.) मद्य-पान जनित एक रोग।
पानरा- (हिं. पुं.) देखें 'पानरा', पनाला।
पानस- (सं. पुं.) कटहल से बनाई हुई मदिरा।
पानही- (हिं. स्त्री.) पनही, जूता।
पाना- (हिं. क्रि. स.) प्राप्त करना, किसी विषय में किसी के वरावर होना, पास पहुँचना, समर्थ होना, जानना, समझना भोजन करना, कोई कोई हुई वस्तु पुनः

मिल जाना. मोल लेना, पता लगाना, साक्षात्कार करना, देखना, अनुभव करना, अच्छा-बुरा परिणाम भोगना, भेद मिलना; (पुं.) धन जो प्राप्त हो सके या जिसके पाने का अधिकार हो।

पानागार—(सं. पुं.) वह स्थान जहाँ बहुत-से लोग एकत्र होकर मद्य पीते हैं।

पानात्यय—(सं. पुं.) अधिक मदिरा पीने से उत्पन्न होनेवाला एक रोग।

पानि—(हिं. पुं.) देखें 'पाणि', हाथ, पानी, जल।

पानिक—(सं. पुं.) मदिरा बेचनेवाला, कलवार।

पानिग्रहण—(हिं. पुं.) देखें 'पाणिग्रहण', विवाह।

पानिप—(हिं. पुं.) द्युति, चमक, कान्ति।

पानिय—(हिं. पुं.) पानी।

पानी—(हिं. पुं.) पानीय, जल, वृष्टि, वर्षा; जीभ, आँख, त्वचा आदि से निकलनेवाला रस या पंछा, वीर्य, शुक्र, वर्ष, साल, मुलम्मा, कोमल वस्तु, जलवायु, चमक, कोई तरल वस्तु, कोई द्रव पदार्थ, अर्क, मान, प्रतिष्ठा, अवसर, कोई नीरस फीका पदार्थ, मद्य, द्रव्युद्ध, पानी की तरह का ठंडा पदार्थ, पशुओं की वंशगत विशेषता, सामाजिक अवस्था, पौरुष, शस्त्र की उत्तमता, जूस, छवि; (मुहा.)

—उतर जाना—अपमानित होना; —का बल बुला—क्षण भर में नष्ट होनेवाला पदार्थ;

—की तरह धन बहाना—अपव्यय करना;

—के मोल—बहुत मस्ते दाम पर; —जाना—

अपमानित होना; —टूटना—तालाब, कुएँ आदि में जल का अभाव होना; —देना—

खेत सींचना, पितरों को तर्पण करना;

—पढ़ना—जल को मंत्र से अभिमंत्रित करके छिड़कना; —पानी कर देना—त्रोध को

शान्त करना; —पानी होना—अति लज्जित होना;

—फूंकना—जल को अभिमंत्रित करना; —फेर देना—पूर्ण रूप से नष्ट कर

देना; —भरना—अत्यन्त हीन प्रतीत होना;

—में आग लगाना—जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहाँ वखेड़ा उत्पन्न कर देना;

—में फेंकना—नष्ट कर देना; —लगना—

कहीं का जलवायु स्वास्थ्य के लिए हितकर न होना; चुल्लू भर पानी में डूब

मरना—अति लज्जित होना, मुँह दिखाने योग्य न रह जाना; मुँह में पानी आना—

बहुत लालच उत्पन्न होना; सूखे पानी में डूबना—घोखे में पड़ना।

पानीदार—(हिं. पुं.) चमकदार, माननीय, प्रतिष्ठित, आत्मानिमानी, साहसी, जीवटवाला।

पानीदेवा—(हिं. पुं.) तर्पण या पिण्डदान देनेवाला, अपने वंश या कुल का व्यक्ति; पुत्र, बेटा।

पानीफल—(हिं. पुं.) सिंघाड़ा।

पानीय—(सं. पुं.) जल; (वि.) पीने योग्य, जो पिया जा सके; —फल—(पुं.)

मखाना; —शालिका—(स्त्री.) प्यासे को पानी पिलाने का स्थान, पीसरा।

पानुस—(हिं. पुं.) देखें 'फानूस'।

पानोरा—(हिं. पुं.) पान के पत्ते की पकौड़ी।

पान्हर—(हिं. पुं.) एक प्रकार का सरपत।

पाप—(सं. पुं.) अधर्म, दुष्कृत, शास्त्र-विहित कर्म न करना, निन्दित कर्म करना, इन्द्रिय

सुपखोपभोग में अत्यन्त आसक्त होना, अपराध, वध, हत्या, अहित, बुराई, कठिनाई, संकट, अधर्म बुद्धि, क्लेश देने का

दुष्कर्म; (वि.) पापिष्ठ, नीच, बुराचारी, अशुभ; (मुहा.)—उदय होना—पूर्व-जन्म

के किये हुए पापों का फल मिलना; —कटना—पाप का नाश होना; झंझट दूर

होना; —पड़ना—पाप लगना; —बटोरना—

पातक करना; —लगना—पाप का भागी होना; —लेना—जान-बूझकर झंझट

में फँसना।

पापकर्म—(सं. पुं.) निषिद्ध कार्य जिसके करने से पाप हो।

पापकर्मा—(हिं. वि.) पापी, पातकी।

पापकर्मी—(हिं. वि.) पाप करनेवाला।

पापकल्प—(सं. वि.) दुष्कर्मी, पापकर्म से जीविका चलानेवाला।

पापकारी—(सं. वि.) पापकर्मी, पातकी।

पापकृत—(सं. वि.) पापी।

पापक्षय—(सं. पुं.) पाप का नाश।

पापगण—(सं. पुं.) छन्दः शास्त्र के अनुसार ठगण का भेद।

पापग्रह—(सं. पुं.) फलित ज्योतिष के अनुसार सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु

अथवा इन ग्रहों से युक्त दुष्ट ग्रह जो अशुभ फल देनेवाले माने जाते हैं।

पापघ्न—(सं. वि.) पापनाशक, जिससे पाप का नाश हो।

पापघ्नी—(सं. स्त्री.) तुलसी।

पापचारी—(सं. वि.) पाप करनेवाला, पापी।

पापचेतस—(सं. वि.) पापबुद्धि, पापिष्ठ।

पापड़—(हिं. पुं.) उड़द अथवा मूँग की बूली हुई बिना छिलके की दाल के भाटे से बनाई हुई मसालेदार महीन पपड़ी;

(वि.) पतला, सूखा; (मुहा.)—बेलना—

बड़े परिश्रम का कार्य करना, दुःख के दिन बिताना।

पापड़ा—(हिं. पुं.) एक वृक्ष जिसकी लकड़ी को खरादकर खिलौने बनाते हैं; —खार—(पुं.) केले के पेड़ से निकला हुआ क्षार।

पापत्व—(सं. पुं.) पाप का अधर्म या आसक्ति।

पापदर्शी—(हिं. वि.) अनिष्ट करने की इच्छा से देखनेवाला।

पापदृष्टि—(सं. वि.) अशुभ या अमंगल दृष्टिवाला।

पापधी—(सं. वि.) पापमति, दुर्बुद्धि।

पापनक्षत्र—(सं. पुं.) अशुभ नक्षत्र।

पापनामा—(सं. वि.) अमंगल नामवाला, अपमानित।

पापनाशन, **पापनाशक**—(सं. वि., पुं.) विष्णु, शिव। (वह प्रायश्चित्त आदि, जिसके करने से पापों का नाश हो।)

पापनाशिनी—(सं. स्त्री.) काली तुलसी।

पापपति—(सं. पुं.) उपपति, जार।

पापपुरुष—(सं. पुं.) तन्त्र में माना हुआ एक पुरुष जिसका सम्पूर्ण शरीर पापमय होता है।

पापफल—(सं. पुं.) पाप का फल; (वि.) जिसका फल अशुभ हो।

पापबुद्धि—(सं. वि.) पापमति, दुष्ट।

पापभक्षण—(सं. पुं.) काल-भरव, शिव।

पापमति—(सं. वि.) पापबुद्धि।

पापमुक्त—(सं. वि.) निष्पाप, पाप से मुक्त।

पापमोक्षिनी—(सं. स्त्री.) चैत के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम।

पापयक्ष्मा—(सं. पुं.) राज्यक्ष्मा, क्षयरोग।

पापयोनि—(सं. स्त्री.) पाप करने से प्राप्त होनेवाली मनुष्य के सिवाय पशु, पक्षी, वृक्ष आदि की योनि जिसको पातकी लोग नरक-यातना भोगने के

वाद प्राप्त करते हैं।

पापर—(हिं. पुं.) देखें 'पापड़'।

पापरोग—(सं. पुं.) वह रोग जो कोई घोर पाप करने से होता है, वसन्त रोग, छोटी माता।

पापरोगी—(सं. वि.) वह जिसको कोई पाप रोग हुआ हो।

पापलेन—(हिं. पुं.) एक प्रकार का उम्दा सूती कपड़ा।

पापलोक—(सं. पुं.) पापियों के रहने का स्थान, नरक।

पापलोक्य—(सं. वि.) नरक-सम्बन्धी।

पापवाद—(सं. पुं.) अशुभसूचक शब्द, अमङ्गल ध्वनि।

पाप-विनाशन—(सं. पुं.) पाप का नाम।

पापशमनी—(सं. स्त्री.) शमी वृक्ष।

पापशील—(सं. वि.) दुष्ट स्वभाव का।

पापसंकल्प—(सं. वि.) जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो।
 पापसम—(सं. वि.) पापतुल्य, पापसदृश।
 पापहन्, पापहर—(सं. वि.) पाप का नाश करनेवाला; (पुं.) आश्विन मास की शुक्ला एकादशी का नाम।
 पापा—(हिं. पुं.) ज्वार-बाजरे की उपज में लगनेवाला एक कीड़ा, बच्चों का पिता को संबोधन करने का शब्द।
 पापाचार—(सं. पुं.) पाप-कर्म, पाप का आचरण; (वि.) पापी, दुराचारी।
 पापात्मा—(सं. वि.) पापिष्ठ, पापी, पातकी।
 पापाशय—(सं. पुं.) अधार्मिक, दुष्ट, पातकी।
 पापाह—(सं. पुं.) निन्दित या अशुभ दिन।
 पापाही—(सं. पुं.) सर्प, साँप।
 पापिष्ठ—(सं. वि.) बहुत बड़ा पापी, पातकी।
 पापी—(हिं. वि.) पाप करनेवाला, निर्दय, क्रूर, दुराचारी, अपराधी, अधर्म करनेवाला, दूसरे को कष्ट देनेवाला।
 पापीयसी—(हिं. स्त्री.) पाप करनेवाली।
 पावंद—(फा. वि.) बँधा हुआ, पराधीन, कैद, नियमित रूप से अनुसरण करनेवाला।
 पावंदी—(फा. स्त्री.) पावंद होने का भाव, बद्धता, अधीनता, मजबूरी, लाचारी।
 पाम—(हिं. स्त्री.) गोद, किनारी के छोर पर लगी हुई गोद; (सं. पुं.) चमड़े पर की फुंसियाँ, खाज, खुजली।
 पामघ्न—(सं. पुं.) गन्धक।
 पामघ्नी—(सं. स्त्री.) कुटकी।
 पामड़ा—(हिं. पुं.) देखें 'पावड़ा'।
 पामरा—(सं. वि.) खल, दुष्ट, नीच कुल में उत्पन्न, दुश्चरित्र, अधर्मी, मूर्ख, निर्बुद्धि।
 पामरी—(हिं. स्त्री.) उपरना, दुपट्टा, पावड़ी।
 पामा—(सं. पुं.) एक प्रकार का चर्म रोग।
 पायें—(हिं. पुं.) देखें 'पावें'।
 पायेंजेहरि—(हिं. स्त्री.) पाजेव, नूपुर।
 पायेंता—(हिं. पुं.) चारपाई का वह भाग जिस ओर पैर रहता है पैताना।
 पायेंती—(हिं. स्त्री.) पैताना।
 पायपुसारी—(हिं. स्त्री.) निमली का वृक्ष और फल।
 पाय—(सं. पुं.) जल, परिणाम; (हिं. पु.) पावें, पैर।
 पायक—(सं. वि.) पीनेवाला; (हिं. पुं.) दूत, हरकारा, दास, सेवक, पैदल सिपाही।
 पायखाना—(हिं. पुं.) मल, गू, शौचालय।
 पायजामा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पहनावा।
 पायजैव—(हिं. पुं.) पैर में पहनने का एक गहना।

पायड़ा—(हिं. पुं.) देखें 'पाँड़ा'।
 पायन—(सं. पुं.) पान।
 पायना—(हिं. क्रि. स.) हथियार पर सान करना।
 पायपोश—(हिं. पुं.) जूता।
 पायरा—(हिं. पुं.) रकाव, एक प्रकार का कवच।
 पायल—(हिं. स्त्री.) नूपुर, पाजेव, बाँस की सीढ़ी, वेग से चलनेवाली हथिनी, वह बच्चा जिसके पैर जनमते समय पहले बाहर निकलें।
 पायस—(सं. पुं.) खीर, देवदारु के वृक्ष से निकला हुआ गोंद; (वि.) दूध-संबंधी।
 पायसा—(हिं. पुं.) पड़ोस।
 पाया—(हिं. पुं.) पलंग, कुर्सी, चौकी आदि के तल में खड़े बल का लगा हुआ डंडा जिन पर इनका ढाँचा जड़ा होता है, गोड़ा, पावा, खंभा, सीढ़ी, पद।
 पायास—(सं. पुं.) पैदल सिपाही।
 पायी—(सं. वि.) पानकारी, पीनेवाला।
 पायू—(सं. पुं.) मलद्वार, गुदा, पाखाना।
 पारंगत—(सं. वि.) समर्थ, पूरा जानकार।
 पारंपरीण—(सं. वि.) परम्परा से आगत।
 पारंपर्य—(सं. पुं.) परम्परा का भाव, कुल-क्रम।
 पार—(सं. पुं.) नदी का किनारा, प्रान्त, भाग, छोर, ओर, पारद, पारा, अन्त, हद; (अव्य.) आगे, दूर; आर-पार- (अव्य.) इस पार से उस पार तक; (मुहा.)—उतरना—सफलता प्राप्त करना किसी काम से छुट्टी पाना; —करना—पूरा करना, समाप्त करना, निर्वाह करना; —पाना—अन्तिम सीमा तक पहुँचना, विजय प्राप्त करना; —लगना—नदी आदि के पार पहुँचना; —लगाना—अन्त तक पहुँचाना, पूरा करना, उद्धार करना; —होना—किसी कार्य को समाप्ति पर पहुँचा देना।
 पारक्—(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना।
 पारक—(सं. वि.) पार करनेवाला, निपुण।
 पारक्य—(सं. वि.) परकीय, पराया।
 पारख—(हिं. पुं.) देखें 'पारिख', पारखी।
 पारखद—(हिं. पुं.) देखें 'पारिख'।
 पारखी—(हिं. पुं.) परीक्षक, परखनेवाला, जिसमें परीक्षा करने की योग्यता हो।
 पारय—(सं. वि.) पारदर्शी, पार जानेवाला, समर्थ, काम को पूरा करनेवाला, अभिज्ञ।
 पारजात—(हिं. पुं.) देखें 'पारिजात', परजाता।

पारजायिक—(सं. पुं.) परस्त्रीशीली, व्यभिचारी।
 पारण—(सं. पुं.) वह भोजन जो किसी व्रत या उपवास के दूसरे दिन प्रथम व्रत किया जाय, इस संबंध का कृत्य, पेष, वादल, तृप्त करने की क्रिया या भाव, समाप्ति।
 पारणा—(सं. स्त्री.) उपवास, व्रत आदि के दूसरे दिन का प्रथम भोजन।
 पारणोय—(सं. वि.) पूरा करने योग्य।
 पारतंत्र्य—(सं. पुं.) पराधीनता।
 पारत्रिक—(सं. वि.) पारलौकिक, परलोक-सम्बन्धी।
 पारथ, पारथिव—(हिं. पुं.) देखें 'पार्थ'।
 पारद—(सं. पुं.) पारा, एक प्राचीन म्लेच्छ जाति का नाम।
 पारदर्शक—(सं. वि.) जिसके भीतर से होकर प्रकाश की किरणें जा सकें, आर-पार दिखलाई देनेवाला।
 पारदर्शन—(सं. वि.) सर्वज्ञ, पारश।
 पारदर्शी—(सं. वि.) परिणामदर्शी, चतुर, विद्वान्, दूरदर्शी, पटु, समर्थ।
 पारदारिक—(सं. पु.) परस्त्री से संभोग करनेवाला।
 पारदाय—(सं. पुं.) परस्त्री-गमन, व्यभिचार।
 पारधी—(हिं. पुं.) वहेलिया, व्याध, वधिक, हत्यारा; (स्त्री.) ओट, आड़।
 पारधीपति—(हिं. पुं.) धनुष चलानेवाला, कामदेव।
 पारन—(हिं. पुं.) देखें 'पारण'।
 पारना—(हिं. क्रि. अ. स.) डालना, गिराना, रखना, पहिना, मिलाना, बुरी स्थिति होना, साँचे आदि में ढालकर तैयार करना, भूमि पर डालना, पछाड़ना, समर्थ होना, उत्पात मचाना, पिंडा पारना, पिण्डदान करना।
 पारवती—(हिं. स्त्री.) देखें 'पार्वती'।
 पारमाथिक—(सं. वि.) परमार्थ-संबन्धी, वास्तविक, भ्रमरहित, स्वामाथिक।
 पारमिष्णु—(सं. वि.) पारा पार जानेवाला।
 पारलौकिक—(सं. पुं.) परलोक-संबन्धी, परलोक में शुभ फल देनेवाला।
 पारवत—(सं. पुं.) पारावत, कवच।
 पारवश्य—(सं. पुं.) परतन्त्रता, परव्यवस्था।
 पारशत्रु—(सं. पुं.) पारश्वी स्त्री से उत्पन्न पुत्र, एक वर्णसंकर जाति जो ब्राह्मण पिता और शूद्रा माता से उत्पन्न हो, लोहा, एक प्राचीन देव का नाम जहाँ मोती निकलता था।

पारश्वध—(सं. पुं.) परशुघारी योद्धा ।
 पारस—(हिं. पुं.) स्पर्शमणि, एक कल्पित पत्थर जिसके विषय में लोगों में ऐसी प्रसिद्धि है कि इसके स्पर्श या छूने से लोहा सुवर्ण हो जाता है, अत्यन्त लाम-दायक तथा उपयोगी वस्तु, खाने के लिये रखा हुआ भोजन, पत्तलभर खाने की सामग्री, एक पहाड़ी वृक्ष, भारतवर्ष के पश्चिम काबुल और अफगानिस्तान के आगे का एक देश; (वि.) आरोग्यपूर्ण, चंगा ।
 पारसनाथ—(हिं. पुं.) देखें 'पार्वनाथ' ।
 पारसव—(हिं. पुं.) देखें 'पारश्व' ।
 पारसी—(हिं. वि.) पारस देश-सम्बन्धी, पारस देश का; (पुं.) पारस देश का रहनेवाला मनुष्य, (स्वदेश परित्याग करके ये लोग भारतवर्ष में आकर बसे हैं। इन लोगों पर मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया था जिससे इनको देश छोड़ना पड़ा।); (स्त्री.) पारस की भाषा ।
 पारसीक—(सं. पुं.) पारस देश का निवासी, पारस देश का घोड़ा ।
 पारस्कर—(सं. पुं.) एक प्राचीन देश का नाम, एक गृह्यसूत्रकार मुनि का नाम ।
 पारस्त्रण्य—(सं. वि.) परस्त्री से उत्पन्न पुत्र, जारज पुत्र ।
 पारस्परिक—(सं. वि.) परस्पर का, आपस का ।
 पारस्य—(सं. पुं.) पारस देश जिसका आधुनिक नाम ईरान है ।
 पारा—(हिं. पुं.) चाँदी की तरह श्वेत चमकती हुई एक तरल धातु जिसका द्रव-रूप गरमी-सरदी से नहीं बदलता; टुकड़ा, पत्थरों के खंडों को जोड़कर बनी हुई दीवार; (मुहा.)—पिलाना—किसी वस्तु को बहुत भारी बना देना ।
 पारायण—(सं. पुं.) सम्पूर्णता, समाप्ति, नियमित समय में किसी धर्म-ग्रन्थ का आदि से अन्त तक पाठ करना ।
 पारायणिक—(सं. पुं.) किसी धर्म-ग्रन्थ का आद्योपन्त पाठ करनेवाला ।
 पारायक—(सं. पुं.) चट्टान, शिला ।
 पारावत—(सं. पुं.) परेवा, पंडुक, कवूतर, वंदर, पर्वत, एक नाग का नाम, तेंदू का वृक्ष, एक प्रकार का खट्टा पदार्थ, दत्तात्रेय के गुरु का नाम ।
 पारावती—(सं. स्त्री.) ग्वालियों का गीत, लवली का फल, हरफारेवड़ी ।
 पारावार—(सं. पुं.) दोनों किनारे, पारा-पार, सीमा, हद, समुद्र ।

पारावारीण—(सं. वि.) आरपार करनेवाला ।
 पाराशर—(सं. पुं.) व्यासदेव, पराशर मुनि का वंशज; (वि.) पराशर-संबंधी, पराशर का बनाया हुआ ।
 पाराशरि—(सं. पुं.) वेदव्यास, शुकदेव ।
 पारिद्र—(सं. पु.) सिंह, शेर ।
 पारि—(हिं. स्त्री.) पार, ओर, दिशा, किसी जलाशय का किनारा ।
 पारिकुट—(सं. पुं.) सेवक, नौकर ।
 पारिख—(हिं. पुं.) देखें 'परख' ।
 पारिक्षत—(सं. पुं.) परीक्षित के पुत्र जनमेजय ।
 पारिगर्भिक—(सं. पुं.) कपोत, कवूतर ।
 पारिग्रामिक—(सं. वि.) गाँव के चारों ओर का ।
 पारिजात—(सं. पुं.) एक वृक्ष जो समुद्र-मंथन के समय निकला था और इन्द्र के नन्दन-वन में आरोपित हुआ, परजाता, हरसिगार, कचनार, ऐरावत के कुल का एक हाथी, एक तन्त्र-शास्त्र का नाम, एक ऋषि का नाम ।
 पारितथ्या—(सं. स्त्री.) स्त्रियों का सिर के बालों पर पहिने का एक आभूषण ।
 पारितोषिक—(सं. वि.) प्रीतिकर, आनन्द देनेवाला; (पुं.) वह वस्तु जो किसी को प्रसन्न करने के लिये दी जाय, भेंट, उपहार, पुरस्कार ।
 पारिपथिक—(सं. पुं.) डाकू, चोर ।
 पारिपात्र—(सं. पुं.) सप्त कुलाचलों में से एक पर्वत ।
 पारिपाश्व—(सं. पुं.) सेवक, अनुचर ।
 पारिपाश्विक—(सं. पुं.) नाटक के अभिनय में एक विशेष नट जो स्थापक का अनुचर होता है, (यह सूत्रधार, नटी आदिके साथ प्रस्तावना में आता है), पास खड़ा रहनेवाला सेवक ।
 पारिप्लव—(सं. वि.) चंचल; (पुं.) एक जलपक्षी, नाव, जहाज ।
 पारिप्लवनेत्र—(सं. पुं.) चंचल चक्षु ।
 पारिर्वह—(सं. पुं.) गरुड़ के एक पुत्र का नाम ।
 पारिभद्र—(सं. पुं.) फरहद का पेड़, सलई का वृक्ष, देवदारु, एक हरे रंग का रत्न ।
 पारिभाव्य—(सं. पुं.) प्रतिभू होने का भाव ।
 पारिभाषिक—(सं. वि.) परिभाषा-युक्त, अर्थवोधक (पद), जिस (शब्द) का व्यवहार किसी विशेष या वैज्ञानिक अर्थ में किया जाता है ।
 पारिसांडल्य—(सं. पुं.) अणु या परमाणु का परिमाण ।
 पारिरक्षक—(सं. पुं.) तपस्वी, साधु ।
 पारिव्राजक—(सं. पुं.) परिव्राज का भाव, संन्यास ।

पारिश—(सं. पुं.) एक वृक्ष, कमण्डलु ।
 पारिशील—(सं. पुं.) एक प्रकार का मालपूआ ।
 पारिषद—(सं. पुं.) सभा में बैठनेवाला, सभ्य, समासद्; (वि.) समा-संबंधी ।
 पारिषदक—(सं. वि.) पंच द्वारा किया हुआ ।
 पारिस पीपल—(हिं. पुं.) भिंडी की जाति का एक पौधा ।
 पारिहारिक—(सं. वि.) परिहार करनेवाला ।
 पारिहार्य—(सं. पुं.) बलय, हाथ का कड़ा ।
 पारिहास्य—(सं. पुं.) परिहास का भाव ।
 पारोद्र—(सं. पुं.) सिंह, अजगर, सर्प ।
 पारी—(सं. स्त्री.) जलराशि; (हिं. स्त्री.) वारी, ओसरी, गुड़ का जमाया हुआ ढोंक ।
 पारीण—(सं. वि.) पारण ।
 पारीरण—(सं. पुं.) कछुवा, दण्ड ।
 पारु—(सं. पुं.) अग्नि, सूर्य ।
 पारुष्य—(सं. पुं.) बोल की अप्रियता, कठोरता, रुखाई, इन्द्र के वन का नाम, बृहस्पति ।
 पारिरेक—(सं. पुं.) खड्ग, तलवार ।
 पारिरेवत—(सं. पुं.) एक प्रकार का अमरुद, एक प्रकार का खजूर ।
 पारिरेसिधु—(सं. अव्य.) समुद्र के दूसरे किनारे पर ।
 पारोक्ष—(सं. वि.) परोक्ष-संबंधी ।
 पार्घट—(सं. पुं.) मस्म, राख ।
 पार्थ—(सं. पुं.) पृथिवीपति, पृथा का पुत्र, अर्जुन, अर्जुनवृक्ष ।
 पार्थक्य—(सं. पुं.) पृथक् होने का भाव, अंतर, मित्रता, वियोग ।
 पार्थव—(सं. पुं.) स्थूलता, मोटाई; (वि.) पृथुराज-संबंधी ।
 पार्थसारथि—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण ।
 पार्थिव—(सं. पुं.) पृथ्वी पर के प्राणी, पृथिवी-पति, राजा, एक संवत्सर का नाम, मंगल ग्रह, मिट्टी का पात्र, मिट्टी का बना हुआ शिवालिंग; (वि.) मिट्टी आदि का बना हुआ, राजा के योग्य, पृथ्वी-संबंधी ।
 पार्थिवी—(सं. स्त्री.) सीता, उमा, पार्वती ।
 पार्पर—(सं. पुं.) यम ।
 पार्वण—(सं. पुं.) किसी पर्व के दिन किया जानेवाला श्राद्ध ।
 पार्वत—(सं. पुं.) महानिम्ब, बकायन, एक प्रकार का अस्त्र, हिंगुल, शिलाजीत; (वि.) पर्वत-संबंधी, पर्वत पर होनेवाला ।
 पार्वती—(सं. स्त्री.) पर्वतराज की कन्या, दुर्गा, शिव की अर्धाङ्गिनी, गोपी, ग्वालिन, द्रौपदी, गोपीचन्दन, धाय, सलई ।
 पार्वतीय—(सं. वि.) पर्वत-संबंधी, पहाड़ी ।

पार्वतीलोचन—(सं. पुं.) एक ताल का नाम ।
 पार्वतीश्वर—(सं. पुं.) एक शिवलिंग का नाम ।
 पार्वतेय—(सं. पुं.) सुरमा, हुरहुर का पीषा, धाय का वृक्ष; (वि.) पर्वत पर होनेवाला ।
 पार्षव—(सं. पुं.) परशु से लड़नेवाला योद्धा ।
 पार्शुका—(सं. स्त्री.) पार्शुका, पसली ।
 पार्श्व—(सं. पुं.) काँख के नीचे का भाग, पसली, निकटता, समीपता, आसपास का स्थान; (वि.) पास का ।
 पार्श्वक—(सं. वि.) धूर्तता से अपनी उन्नति करनेवाला ।
 पार्श्वग—(सं. पुं.) अनुचर, सेवक; (वि.) पास या साथ रहनेवाला ।
 पार्श्वगत—(सं. वि.) निकट रहनेवाला ।
 पार्श्वचर—(सं. पुं.) अनुचर, भृत्य ।
 पार्श्वच्छवि—(हि. स्त्री.) अप्रधान शोभा ।
 पार्श्वतीय—(सं. वि.) जो पार्श्व में हो ।
 पार्श्वद—(सं. पुं.) अनुचर, सेवक ।
 पार्श्वदेश—(सं. पुं.) पार्श्व-भाग ।
 पार्श्वनाथ—(सं. पुं.) जैनों के तेईसवें तीर्थंकर ।
 पार्श्वभाग—(सं. पुं.) पक्ष, काँख ।
 पार्श्ववक्त्र—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 पार्श्ववर्ती—(सं. पुं.) पास रहनेवाला मनुष्य; (वि.) समीप का ।
 पार्श्वशायी—(सं. वि.) बगल में सोनेवाला ।
 पार्श्वसूत्रक—(सं. पुं.) एक प्रकार का प्राचीन आभूषण ।
 पार्श्वस्थ—(सं. पुं.) पार्श्वस्थित नट, अभिनय के नटों में से एक जो पास में खड़ा रहता है; (वि.) पास में खड़ा रहनेवाला ।
 पार्श्वस्थित—(सं. वि.) पार्श्व में रहनेवाला ।
 पार्श्वानुचर—(सं. पुं.) अनुचर ।
 पार्श्वसन्न—(सं. वि.) पार्श्व में उपस्थित ।
 पार्श्वस्थि—(सं. पुं.) पार्शुका, पसली की हड्डी ।
 पार्श्विक—(सं. वि.) सहचर, छली ।
 पार्षत—(सं. पुं.) राजा बिराट के पुत्र घृष्टद्युम्न ।
 पार्षती—(सं. स्त्री.) द्रौपदी ।
 पार्षद—(सं. पुं.) मन्त्री, पास रहनेवाला सेवक, पारिपद, अनुचर ।
 पार्षिण—(सं. पु.) एड़ी, पृष्ठ; (स्त्री.) कुन्ती ।
 पालक—(सं. पुं.) पालक का साग, बाज पक्षी, एक प्रकार का रत्न ।
 पालकी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का गन्धद्रव्य, कुंदूरु में ।
 पाल—(सं. पुं.) पालक, पालन करनेवाला, चीते का वृक्ष; (हि. पुं.) पत्तों को नीचे-ऊपर रखकर फलों को पकाने की विधि,

वह स्थान जहाँ पत्तों को नीचे-ऊपर विछाकर फल पकाये जाते हैं, तंबू, चंदवा, गाड़ी आदि ढाँपने का टाट, ओहार, नाव के मस्तूल पर ब्राँवने का मोटा वस्त्र, कद्दूतरों का जोड़ा खाना; (स्त्री.) अँचा किनारा, कगार, पानी रोकने का बाँध या मेंड़ ।
 पालक—(सं. पुं.) रक्षा करनेवाला मनुष्य, चीते का वृक्ष, कुठ नामक वृक्ष, हिंगुल; (वि.) पालनेवाला; (हि. पुं.) एक प्रकार का शाक, पालक, पाला हुआ पुत्र; —जूही—(हि. स्त्री.) औषध में प्रयुक्त होनेवाला एक पौधा; —पुत्र—(पुं.) पाला हुआ पुत्र. दत्तक-पुत्र ।
 पालकी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की सवारी जिसको कहार कंवे पर डोते हैं, पीनस, खड़खड़िया, पालक का साग; —गाड़ी—(स्त्री.) पालकी के आकार की घोड़ा-गाड़ी ।
 पालघ्न—(सं. पुं.) छत्राक, खुमी ।
 पालट—(हि. स्त्री.) पटेबाजी का एक हाथ; (वि.) पाला-पोसा हुआ लड़का, दत्तक-पुत्र ।
 पालतू—(हि. वि.) पाला-पोसा हुआ ।
 पालथी—(हि. स्त्री.) देखें 'पलथी' ।
 पालन—(सं. पुं.) तुरत की ब्याई हुई गाय का दूध, रक्षण, भरणपोषण, अनुकूल व्यवहार से किसी बात का निर्वाह, वचन को मंग न करना, बात न टालना, लड़कों को बहलान का गीत ।
 पालना—(हि. क्रि.सं.) पालन-पोषण करना, पक्षी आदि को पोसना, अनुकूल आचरण द्वारा अपनी बात की रक्षा या निर्वाह करना; (पुं.) वच्चों को सुलाने का खटोला या झूला जो रस्सियों से लटकाया रहता है ।
 पालनीय—(सं. वि.) पालन करने योग्य ।
 पालयिता—(हि. वि.) पालन करनेवाला ।
 पालल—(सं. पुं.) तिलपपड़ी ।
 पालव—(हि. पुं.) कोमल पत्ता ।
 पाला—(हि. पुं.) वायु में मिले हुए भाप के अत्यन्त सूक्ष्म कण जो अधिक ठंड से जमीन पर बर्फ के रूप में जम जाते हैं, हिम, ठंडक से जमा हुआ पानी, ठंड, व्यवहार का संयोग, दस-पाँच आदमियों के बैठने की जगह, मुख्य स्थान, सीमा निर्धारित करने के लिये बनी हुई मेंड़ या भीटा, अनाज रखने का मिट्टी का बड़ा पात्र, मल्लयुद्ध का स्थान, अखाड़ा; (मुहा.)—पड़ना—आवश्यकता होना; —मार जाना—पाला

पड़ने से उषज को हानि पहुँचना; किसी के पाले पड़ना—किसी के बश में आ जाना ।
 पालागन—(हि. स्त्री.) नमस्कार, दण्डवत् ।
 पालागल—(सं. पुं.) दूत, समाचार देनेवाला मनुष्य ।
 पालाश—(सं. वि.) हरित, हरे रंग का ।
 पालाशी—(सं. स्त्री.) खिरनी का पेड़ ।
 पालि—(सं. स्त्री.) पंक्ति, श्रेणी, कोना, प्रान्त, किनारा, वह स्त्री जिसकी दाढ़ी में बाल हों, सेतु, पुल, परिवि, जूँ, चीलर, एक प्राचीन तौल, मेंड़, बाँव, बटलोई, सीमा, प्रशंसा, गोद, करार, भीटा ।
 पालिक—(सं. पुं.) पलंग, चारपाई, पालकी ।
 पालिका—(सं. स्त्री.) घर का कोना; पालनेवाली ।
 पालित—(सं. वि.) रक्षित, पाला हुआ; (पुं.) कुमार का एक अनुचर, कायस्थों की एक उपाधि ।
 पालित्य—(सं. पुं.) वालों की सफेदी ।
 पाली—(हि. वि.) पालन करनेवाला, रक्षा करनेवाला; (सं. स्त्री.) जूँ, थाली; मध्य एशिया में प्रचलित एक प्राचीन लिपि जिसमें लिखे हुए अशोक के समय के अनेक शिलालेख पाये जाते हैं। (इसकी वर्णमाला के अक्षर देवनागरी से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं, इसमें वौदों के घर्माण्य लिखे हुए हैं); (हि. स्त्री.) वह स्थान जहाँ तीतर, बटेर, बुलबुल आदि पक्षी लड़ाये जाते हैं, पात्र का ढपना, परई ।
 पालीपोश—(सं. पुं.) कान का एक रोग ।
 पालू—(हि. वि.) पालतू, पाला हुआ ।
 पालो—(हि. पुं.) गाँव की बस्ती से दूरकी भूमि जिसकी सिंचाई कुएँ से होती है ।
 पाल्य—(सं. वि.) पालने योग्य ।
 पाल्वल—(सं. वि.) ताल में होनेवाला; (पुं.) ताल का पानी ।
 पाव—(हि. पुं.) चलने का अंग, पाद, पैर; (मुहा.)—अड़ाना—हस्तक्षेप करना; —उखड़ जाना—ठहरने की शक्ति न रहना, युद्ध से भागना; —उठाना—चलने के लिये पैर बढ़ाना; —घिसना—चलते-चलते पैरों का थकना; —जमना—स्थिति दृढ़ होना; —तोड़कर बैठना—अपने स्थान पर टिक जाना, हार जाना; —तोड़ना—पैर थकाना, अधिक प्रयास करना; —बरना—पैर छूकर प्रणाम करना; (घुरे रास्ते पर)—घरना—घुरे आचरण में प्रवृत्त होना; (घरती पर)—न रखना—बहुत घमंड से चलना; —न होना—साहस गंवा देना; —पकड़ना—पैर छूना, शून्यता

प्रकट करना, पैर छूकर प्रणाम करना; -पखारना-पैर धोना; -पड़ना-साष्टांग दंडवत् करना, श्रुश्रुषा करना; -पसारना-पैर फैलाना, ठाट-बाट बनाना; -पांव चलना-पैदल चलना; -पूजना-बड़ा सत्कार करना; -फूंक-फूंककर चलना-बहुत संभलकर काम करना; -फैलाना-अधिक लालसा करना; -बढ़ाना-आगे बढ़ना; -भर जाना-चलते-चलते बहुत थक जाना; -भारी होना-स्त्री का गर्भ धारण करना; -रोपना-दूढ़ निश्चय करना; -लगना-प्रणाम करना; -सो जाना-पैर उठाने की शक्ति न रहना ।

पार्व-चप्पी-(हि. स्त्री.) थकावट दूर करने के लिये पैर दवाना ।

पार्वेड़ा-(हि.पुं.) पैर रखने के लिये मार्ग पर फैलाया हुआ कपड़ा ।

पार्वेड़ी-(हि. स्त्री.) खड़ाऊँ, जूता, गोटा वुननेवालों का एक उपकरण ।

पाव-(हि.पुं.) चतुर्थ भाग, चौथाई अंश, एक सेर का चौथाई भाग चार छटाँक का परिमाण ।

पावक-(सं. पुं.) अग्नि, सदाचार, चीते का वृक्ष, वरुण, एक ऋषि का नाम, सूर्य, अग्नि मन्थ वृक्ष, तपस्वी; (वि.) शुद्ध या पवित्र करनेवाला; -मणि-(पुं.) सूर्यकान्त मणि; -वर्ण-(वि.) अग्नि के समान तेजस्वी ।

पावका-(सं. स्त्री.) सरस्वती ।

पावकात्मज-(सं. पुं.) कार्तिकेय ।

पावकि-(सं. पुं.) कार्तिकेय, पावक का पुत्र जो इक्ष्वाकुवंशीय दुर्योधन की कन्या सुदर्शना से उत्पन्न हुआ था ।

पावकुलक-(सं. पुं.) पादाकुलक छन्द, चौपाई ।

पावदान-(हि. पुं.) पैर रखने की वस्तु या स्थान, एक्का, गाड़ी आदि में पैर रखने का स्थान, मेज के नीचे पैर रखने के लिये रखी हुई छोटी चौकी ।

पावन-(सं. पुं.) व्यास, पीली भँगरैया, जल, विष्णु, सिद्ध, गोवर, रुद्राक्ष, कुठ, चीता, चन्दन, प्रायश्चित्त; (वि.) शुद्ध, पवित्र, शुद्ध या पवित्र करनेवाला; -ता-(स्त्री.) पवित्रता, शुद्धता; -त्व-(पुं.) शुद्धता; -ध्वनि-(पुं.) पवित्र ध्वनि, शंख ।

पावना-(हि. क्रि. स.) प्राप्त करना, अनुभव करना, जानना, समझना, भोजन करना, पाना; (पुं.) लेहना ।

पावनि-(सं. पुं.) पवनसुत, हनुमान् ।

पावनी-(सं. स्त्री.) तुलसी, गाय, गंगा; (वि.स्त्री.) पवित्र करनेवाली, पवित्र, शुद्ध ।
पावमुहर-(हि. स्त्री.) शाहजहाँ के काल की सोने की एक मुद्रा जो मुहर की चौथाई होती थी ।

पावल-(हि. स्त्री.) देखें 'पायल' ।

पावली-(हि. स्त्री.) चार आने की मुद्रा, चवन्नी ।

पावस-(हि. स्त्री.) वर्षाकाल, बरसात, सावन-भादों का महीना ।

पावा-(हि. पुं.) देखें 'पाया', गोरखपुर जिले का एक प्राचीन गाँव, (यहाँ पर गौतम बुद्ध कुछ दिनों तक ठहरे थे ।)

पावित्र-(सं. पुं.) एक प्रकार का छन्द ।

पावी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की मैना ।

पाव्य-(सं. वि.) पाक करने योग्य ।

पाश-(सं. पुं.) आर्य जाति का एक प्रकार का प्राचीन युद्धास्त्र, पशु-पक्षियों को फँसाने का फंदा, जाल रस्सी, डोरी, बन्धन, एक योग विशेष, शब्द के अन्त में जोड़ने से इसका अर्थ-समूह, निन्दा आदि होता है यथा-केशपाश, छलपाश; -क-(पुं.) पासा, चौपड़; -केलरी-(स्त्री.) पासा फेंककर की जानेवाली फलित-ज्योतिष की एक गणना; -क्रीड़ा-(स्त्री.) पासा खेलना; -घर-(पुं.) जलदेव, वरुण देवता; -पाणि-(पुं.) वरुण देवता; -बंधक-(पुं.) व्याध, बहेलिया; -भूत्-(पुं.) वरुण देवता; -मुद्रा-(स्त्री.) तन्त्रोक्त एक प्रकार की मुद्रा; -हस्त-(पुं.) वरुण, शतभिषा नक्षत्र ।

पाशन-(सं. पुं.) बन्धन ।
पाशव-(सं. वि.) पशु-संबंधी, पशु के समान ।
पाशवासन-(सं. पुं.) एक आसन का नाम ।
पाशांत-(सं. पुं.) कपड़े का किनारा ।
पाशा-(पुं.) तुर्क देश के सरदारों की उपाधि ।
पाशिक-(सं. पुं.) व्याध, बहेलिया ।
पाशित-(सं. वि.) पाशयुक्त, बंधा हुआ ।
पाशिन्-(सं. पुं.) वरुण, यम, व्याध, बहेलिया ।
पाशुक-(सं. वि.) पशु-संबंधी ।
पाशुपत-(सं. पुं.) अगस्त का वृक्ष, पशु-पति देवता, पशुपति देवता के भक्त या उपासक, शिव का कहा हुआ तन्त्रशास्त्र; (वि.) शिव-संबंधी, पशुपति का; -दर्शन-(पुं.) एक प्रसिद्ध धार्मिक दर्शन जिसका उल्लेख माधवाचार्य ने सर्व-दर्शन-संग्रह में किया है ।

पाशुपतास्त्र-(सं. पुं.) महादेव का वह अस्त्र जो बहुत प्रचण्ड था, (अर्जुन ने

कठोर तपस्या करके शिव से यह अस्त्र प्राप्त किया था ।

पाशुपाल्य-(सं. पुं.) पशुओं को पालने की वृत्ति ।

पाशुबंधक-(सं. पुं.) वह स्थान जहाँ यज्ञ का बलि-पशु बाँधा जाता है ।

पाश्चात्य-(सं. वि.) पीछे होनेवाला, पीछे का, पिछला, पश्चिम देश या दिशा का; -दर्शन-(पुं.) अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय विद्वानों का लिखा हुआ दर्शन-शास्त्र ।

पाषंड-(सं. वि.) वैदिक धर्म के विरुद्ध आचरण करनेवाला, पाखंडी, झूठा मत माननेवाला, झूठा आडंबर दिखलाने-वाला, कपट वेशधारी, ढोंगी, दूसरों को ठगने के लिये साधुओं के समान रंग-रूप बनानेवाला ।

पाषंडी-(सं. वि.) वैदिक धर्म के विरुद्ध आचरण या धर्म-ग्रहण करनेवाला, झूठा मत माननेवाला, धूर्त, ढोंगी ।

पाषर-(हि. स्त्री.) देखें 'पाखर' ।

पाषाण-(सं. पुं.) शिला, प्रस्तर, पत्थर, गन्धक; -कदली-(स्त्री.) पहाड़ी केला; -गर्भ-दाढ़ सूजने का रोग; -गैरिक-(पुं.) गेरु; -जतु-(पुं.) शिलाजतु, शिलाजीत; -दारक-(पुं.) टांकी, छेनी; -भिद्-(पुं.) कुलत्थ, कुलथी; -भेद-(पुं.) पथरचट्टा नाम का सुन्दर पत्तियोवाला एक पौधा; -रोग-(पुं.) अश्मरीरोग, पथरी ।

पाषाणी-(सं. स्त्री.) तौलने के काम में आनेवाला पत्थर का टुकड़ा ।

पासंग-(फा. पुं.) तराजू की डाँड़ी का एक ओर उठा और एक झुका हुआ होने पर इन्हें बराबर करने के लिए उठे हुए पलड़े पर रखा जानेवाला भार, पसंघा ।

पास-(हि. पुं.) पासा, फाँस ऊन कतरने की कैंची, पार्श्व, समीपता, निकटता, अधिकार; (अव्य.) निकट, समीप अधिकार में, किसी के प्रति, किसी को संबोधन करके; आसपास-(अव्य.) निकट, लगभग, प्रायः, करीब; (मुहा.) -पटकना-समीप आना ।

पासना-(हि. क्रि. अ.) थनों में दूध आना ।

पासनी-(हि. स्त्री.) अन्नप्राशन, वच्चे को पहले-पहल अन्न चटाने का संस्कार ।

पासबंध-(हि. पुं.) दरी वुनने के करघ की एक लकड़ी ।

पासवान-(हि. पुं.) पार्वचर, पास रहनेवाला सेवक ।

पासवर्ती—(हि. वि.) देखें 'पार्ववर्ती' ।
 पासा—(हि. पुं.) हाथी-दाँत या हड्डी का बना हुआ छः पहलोंवाला छोटा टुकड़ा जिस पर बिंदियाँ बनी होती हैं और जो चौसर खेलने के काम में आता है, चौसर का खेल, गुल्ली, पीतल या काँसे का ठप्पा; (मुहा.)—पड़ना—भाग्य का अनुकूल होना;—पलटना—स्थिति बदलना ।
 पासासार—(हि. पुं.) पासे की गोटी, पासे का खेल ।
 पासिका—(हि. स्त्री.) पाश, फंदा, जाल ।
 पासो—(हि. पुं.) जाल या फन्दा डालकर चिड़िया पकड़नेवाला, व्याध, वहेलिया, एक नीच और अस्पृश्य जाति; (स्त्री.) फंदा, फाँस, घास बाँधने का जाल, धोड़े के पैर में बाँधने की रस्सी, पिछाड़ी ।
 पासुली—(हि. स्त्री.) देखें 'पसली' ।
 पाह—(हि. अव्य.) निकट, समीप, पास, किसी के प्रति ।
 पाह—(हि. पुं.) एक प्रकार का पत्थर ।
 पाहन—(हि. पुं.) पाषाण, पत्थर ।
 पाहरु—(सं. पुं.) पहरा देनेवाला, चौकीदार ।
 पाहा—(हि. पुं.) खेत के चारों ओर की मेंड़ ।
 पाहात—(सं. पुं.) शहतूत का पेड़ ।
 पाहि—(हि. अव्य.) समीप, निकट, पास, प्रति, से ।
 पाहि—(सं. क्रि. पद) एक संस्कृत क्रिया-पद जिसका अर्थ है—रक्षा करो, बचाओ ।
 पाही—(हि. स्त्री.) वह खेती जिसका किसान दूसरे गाँव में रहता हो ।
 पाहुँच—(हि. स्त्री.) देखें 'पहुँच' ।
 पाहुना—(हि. पुं.) अभ्यागत, अतिथि, जामाता, दामाद ।
 पाहुनी—(हि. स्त्री.) स्त्री अतिथि, आतिथ्य, सत्कार ।
 पाहुर—(हि. पुं.) मेंट, वह धन या वस्तु जो इष्ट-मित्र या सम्बन्धी के यहाँ व्यवहार में दी जाय ।
 पाह—(हि. पुं.) मनुष्य, पत्थरों के जोड़ पर जड़ने का टेढ़ा लोहा ।
 पिग—(सं. पुं.) बालक, हरताल, भैंसा, चूहा, पीला रंग, भुरापन लिये लाल रंग, तामड़ा; (वि.) ललाई लिये भूरा ।
 पिगकपिशा—(सं. स्त्री.) गोवरैले के प्रकार का एक कीड़ा, तेल चूटा ।
 पिगचक्षु—(सं. वि.) जिसकी आँखें भूरे रंग की हों ।
 पिगजट—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 पिगमल—(सं. पुं.) पीला गाजर ।

पिगर, पिगल—(सं. पुं.) लाल और भूरा मिला हुआ रंग, एक नाग का नाम, एक पर्वत का नाम, एक संवत्सर का नाम, पिङ्गलाचार्य का बनाया हुआ छन्द शास्त्र का एक ग्रन्थ, एक यक्ष का नाम, उलूक, उल्लू पक्षी, नैवला, बन्दर, अग्नि, एक प्रकार का स्थावर विष, पीतल, हरताल, खस; (वि.) तामड़ा, सुंघनी के रंग का ।
 पिगलक—(सं. पुं.) एक प्रकार के यक्ष ।
 पिगला—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी का एक नाम, हठयोग के अनुसार दक्षिण पार्व में अवस्थित एक नाड़ी का नाम, राजनीति, गोरोचन, शीशम का पेड़ ।
 पिगलिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की मक्खी जिसके काटने से जलन और सूजन होती है ।
 पिगसार—(सं. पुं.) हरिताल, हरताल ।
 पिगस्फटिक—(सं. पुं.) गोमेदक मणि ।
 पिगा—(सं. स्त्री.) हलदी, गोरोचन, वंशलोचन, रक्तवाहिनी नाड़ी ।
 पिगाक्ष—(सं. पुं.) शिव, महादेव, नर नामक जलजन्तु, विल्ली; (वि.) जिसकी आँखें तामड़े रंग की हों ।
 पिगाक्षी—(सं. स्त्री.) कुमार की अनुचरी एक मातृका ।
 पिगाही—(सं. स्त्री.) नील का पौधा ।
 पिगूरा—(हि. पुं.) वच्चों को सुलाकर झूलाने का पालना ।
 पिगक्षण—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 पिगेश—(सं. पुं.) अग्नि का एक नाम ।
 पिजड़ा—(हि. पुं.) देखें 'पिजरा' ।
 पिजन—(सं. पुं.) रूई धुनने की धुनकी ।
 पिजर—(सं. पुं.) देखें 'पिजरा', पिजड़ा ।
 पिजरा—(हि. पुं.) लोहे, वाँस आदि की तीलियों का बना हुआ झावा जिसमें पक्षी पाले जाते हैं ।
 पिजरापोल—(हि. पुं.) गोशाला, पशुशाला, वह स्थान जहाँ पालतू चौपाये रखे जाते हैं ।
 पिजियारा—(हि. पुं.) रूई ओटनेवाला ।
 पिड—(सं. पुं.) गोलाकार वस्तु; पित्रादि के उद्देश्य से दिया जानेवाला अन्न, जीविका, आहार, भोजन, मदन वृक्ष, कोई गोल द्रव्य, जपा-पुष्प, खीर आदि का हाथ से बाँधा हुआ गोल लोदा, बल, धन ।
 पिडक, पिडकंद—(सं. पुं.) पिण्डालू, ओल, पिशाच, कवल ।
 पिडका—(सं. स्त्री.) मसूरिका, छोटी चेचक ।

पिडखजू(जू)र—(सं. पुं.) छोहाड़ा ।
 पिडज—(सं. पुं.) वह जन्तु जो पिंड अर्थात् शावक के रूप में उत्पन्न हो ।
 पिडत्व—(सं. पुं.) पिण्ड का भाव या फल ।
 पिडद—(सं. पुं.) पिण्डदान करनेवाला, वह जो पिण्डदान का अधिकारी हो ।
 पिडदान—(सं. पुं.) पिण्ड देने का कृत्य जो श्राद्ध में किया जाता है ।
 पिडपात—(सं. पुं.) पिण्डदान, भिक्षादान ।
 पिडपात्र—(सं. पुं.) वह पात्र जिसमें पिण्डदान किया जाता है, भिक्षापात्र ।
 पिडपाद—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी ।
 पिडपुष्प—(सं. पुं.) अड़हुल का फूल, कमल का फल, अनार का वृक्ष ।
 पिडपुष्पक—(सं. पुं.) वथुआ का साग ।
 पिडफल—(सं. पुं.) कद्दू ।
 पिडफला—(सं. स्त्री.) तितलौकी ।
 पिडबीज—(सं. पुं.) कनेर का पेड़ ।
 पिडभाजू—(सं. पुं.) पिण्डभोजी, पिण्ड खानेवाला ।
 पिडमय—(सं. वि.) गोल, पिंड जैसा ।
 पिडमुस्ता—(सं. स्त्री.) नागरमोथा ।
 पिडमूल—(सं. पुं.) गाजर, शलजम ।
 पिडयोनि—(सं. स्त्री.) योनि का एक प्रकार का रोग ।
 पिडरोग—(सं. पुं.) कुण्ठ, कोढ़ ।
 पिडल—(सं. पुं.) सेतु, पुल ।
 पिडस—(सं. पुं.) भिक्षा से जीविका निर्वाह करनेवाला ।
 पिडस्थ—(सं. वि.) संयुक्त, मिश्रित, एक में मिला हुआ ।
 पिडा—(सं. स्त्री.) हलदी, एक प्रकार की कस्तूरी ।
 पिडाकार—(सं. वि.) पिंड के आकार का, गोल ।
 पिडामा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का गुड़ ।
 पिडालू (लू)—(सं. पुं.) एक प्रकार का सफतालू ।
 पिडाश—(सं. पुं.) भिक्षुक, भिखारी ।
 पिडित—(सं. वि.) घन, पिण्ड के रूप में बँधा हुआ, गुणा किया हुआ; (पुं.) काँसा ।
 पिडिन्—(सं. वि.) शरीरधारी, शरीरी ।
 पिडिरिका—(सं. स्त्री.) चौराई का साग ।
 पिडिला—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की ककड़ी ।
 पिडी—(सं. स्त्री.) कद्दू, लौकी, एक प्रकार का तगर, एक प्रकार का खजूर, ठोस गोल वस्तु, लुगदी, वह वेदी जिसपर बलिदान किया जाता है, सूत, रस्सी आदि का लपेटा हुआ लच्छा; —पुष्प—(पुं.)

अशोक वृक्ष; -शूर-(पुं.) घर में बैठे-
नैठे बूरता दिखलानेवाला, पेठू ।
पिडोद्भवा-(सं. स्त्री.) मदिरा, शराव ।
पिडोलि-(सं. स्त्री.) उच्छिष्ट पदार्थ, जूठन ।
पिभाज-(हिं. पुं.) देखें 'प्याज' ।
पिभाना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'पिलाना' ।
पिभानो-(सं. पुं.) वाद्य यंत्र विशेष ।
पिभार-(हिं. पुं.) देखें 'प्यार' ।
पिभारा-(हिं. वि.) देखें 'प्यार' ।
पिभास-(हिं. स्त्री.) देखें 'प्यास' ।
पिभासा-(हिं. वि.) देखें 'प्यासा' ।
पिउ-(हिं. पुं.) पति ।
पिउनी-(हिं. स्त्री.) देखें 'पूनी' ।
पिक-(सं. पुं.) कोकिल, कोयल; -देव-
(पुं.) आम, का वृक्ष; -प्रिय-(पुं.)
वसन्त-काल, आम का वृक्ष; -प्रिया-
(स्त्री.) बड़ा जामुन, कोकिला; -बंधु,
-बल्लभ-(पुं.) आम का पेड़ ।
पिकांग-(सं. पुं.) चातक पक्षी, पपीहा ।
पिकाक्ष-(सं. पुं.) तालमखाना; (वि.)
जिसकी आंखें कोयल की तरह लाल हों ।
पिकानद-(सं. पुं.) वसन्त ऋतु ।
पिकी-(सं. स्त्री.) कोकिला, मादा कोयल ।
पिकुरस-(सं. पुं.) मद्य ।
पिकक-(सं. पुं.) हाथी का बच्चा ।
पिघलना-(हिं. क्रि. अ.) द्रवीभूत होना,
किसी गाढ़े पदार्थ का गरमी से गलकर
पानी के समान हो जाना, चित्त में दया
उत्पन्न होना, पसीजना ।
पिघलाना-(हिं. क्रि. स.) दयार्द्र करना,
किसी के चित्त में दया उत्पन्न करना,
किसी वस्तु को गरमी पहुँचाकर पानी
सा तरल बनाना ।
पिचकना-(हिं. क्रि. अ.) किसी उमड़े हुए
अथवा फूले हुए तल का दब जाना ।
पिचकवाना-(हिं. क्रि. स.) पिचकाने का
काम दूसरे से कराना ।
पिचका-(हिं. पुं.) बड़ी पिचकारी ।
पिचकाना-(हिं. क्रि. स.) फूले या उमड़े
हुए तल को नीचे की ओर दवाना ।
पिचकारी-(हिं. स्त्री.) एक नल जैसा यन्त्र
जिससे कोई तरल पदार्थ खींचकर वेग से
फेंका जाता है, (यह वाँस, लोहा, पीतल,
काँच, टीन आदि की बनी होती है ।)
पिचकी-(हिं. स्त्री.) देखें 'पिचकारी' ।
पिचपिचा-(हिं. वि.) देखें 'चिपचिपा' ।
पिचपिचाना-(हिं. क्रि. अ.) धाव आदि में
से थोड़ा-थोड़ा करके पंछा आदि निकलना ।
पिचपिचाहट-(हिं. स्त्री.) (धाव आदि
का) गिला या आर्द्र रहने की अवस्था ।

पिचलना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'कुचलना' ।
पिचु-(सं. पुं.) रूई, एक प्रकार का
कुष्ठ रोग, दो तोले के बराबर की तौल,
एक असुर का नाम, एक प्रकार का घान ।
पिचुक-(सं. पुं.) मैनफल का वृक्ष ।
पिचुकिया-(हिं. स्त्री.) छोटी पिचकारी ।
पिचुकका-(हिं. पुं.) गोलगप्पा, पिचकारी ।
पिचोतरसो-(हिं. पुं.) पहाड़े में एक सौ और
पाँच की संख्या के लिये कहा जाता है ।
पिचुट-(सं. पुं.) सीसा, राँगा, आँख
का एक रोग ।
पिचुट-(सं. पुं.) एक प्रकार का विपैला
कीड़ा ।
पिचुत्त-(सं. वि.) पिचका हुआ, जो
दबकर चिपटा हो गया हो ।
पिचुची-(हिं. वि.) देखें 'पिचुत्त' ।
पिचुछ, पिचुछक-(सं. पुं.) पशु की पूँछ,
लांगुल, मोर की पूँछ, चूड़ा, मोर की
चोटी, मोचरस ।
पिचुत्तिका-(सं. स्त्री.) शीशम का पेड़ ।
पिचुत्तन-(सं. पुं.) किसी वस्तु को
दवाकर चिपटी करने की क्रिया ।
पिचुत्तवाण-(सं. पुं.) श्येन पक्षी, वाज
नामक चिड़िया ।
पिचुत्तभार-(सं. पुं.) मोर की पूँछ ।
पिचुत्तल-(सं. पुं.) मोचरस, आकाश-
वल्ली, शिशपा वृक्ष, शीशम का पेड़;
(वि.) देखें 'पिचुत्तल' ।
पिचुत्ता-(सं. स्त्री.) पूग, सुपारी, मोच-
रस, निर्मली का पेड़, आकाशवल्ली,
नारंगी का पेड़ ।
पिचुत्तल-(हिं. वि.) जिस पर से पैर
फिसल जाय, चिकना; -पाद-
(पुं.) घोड़े के पैर का एक रोग;
-बीज-(पुं.) दाडिम, अनार ।
पिचुत्तलक-(सं. पुं.) घन्वन का वृक्ष,
मोचरस ।
पिचुत्तलच्छदा-(सं. स्त्री.) पोय का साग,
वेर का फल ।
पिचुत्तला-(सं. स्त्री.) शीशम, सेमर,
तालमखाना, अगर, अरवी ।
पिचुत्तना-(हिं. क्रि. अ.) श्रेणी में आगे या
बराबर न रहना, पीछे रह जाना ।
पिचुत्तगा-(हिं. पुं.) सेवक, नौकर,
आश्रित व्यक्ति, अनुगामी, दूसरे के मत
से काम करनेवाला, वह मनुष्य जो किसी
के पीछे-पीछे चले, शिष्य, किसी का
मतानुयायी, चेला ।
पिचुत्तगो-(हिं. स्त्री.) अनुसरण, अनुयायी
होना, अनुगमन करना ।

पिचुल्लू(गुं)-(हिं. वि.) देखें 'पिचुल्ला' ।
पिचुल्लना-(हिं. क्रि. अ.) पीछे की ओर
हटना या मुड़ना ।
पिचुल्लपाई-(हिं. स्त्री.) जाँदूगरनी, चुड़ैल ।
पिचुल्ला-(हिं. वि.) पीछे की ओर का,
अन्त की ओर का, गत, बीता हुआ,
पुराना, भूतकाल का, बाद का; (पुं.)
पिचुल्ले दिन का पड़ा हुआ, पाठ वह खाना
जो रोजे के दिनों में मुसलमान लोग
रात रहते ही खा लेते हैं, सहरी; -पहर-
(पुं.) आधी रात के बाद का समय;
पिचुल्ली रात-(स्त्री.) पिचुल्ला पहर ।
पिचुल्लवाई-(हिं. स्त्री.) शीशेवाली खिड़की
आदि के पीछे की ओर लटकाने का परदा ।
पिचुल्लवाड़ा, पिचुल्लवारा-(हिं. पुं.) घर के
पीछे का स्थान या भाग ।
पिचुल्लड़ी-(हिं. स्त्री.) पीछे का भाग, घोड़े
के पिचुल्ले पैरों में बाँधने की रस्सी ।
पिचुल्लारी-(हिं. स्त्री.) देखें 'पिचुल्लड़ी' ।
पिचुल्लौंड़-(हिं. वि.) किसी के मुख की ओर
पीठ किया हुआ, जिसने अपना मुँह पीछे
फेर लिया हो ।
पिचुल्लौंड़ा-(हिं. अव्य.) पीछे की ओर ।
पिचुल्लौंता-(हिं. अव्य.) पिचुल्ले ओर ।
पिचुल्लौंही-(हिं. स्त्री.) देखें 'पिचुल्लौरी' ।
पिचुल्लौंहेँ-(हिं. अव्य.) पिचुल्ले ओर ।
पिचुल्लौरा-(हिं. पुं.) मनुष्य के ओढ़ने का
दुपट्टा या चादर ।
पिचुल्लौरी-(हिं. स्त्री.) स्त्रियों की चादर
जिसको वे धोती के ऊपर ओढ़ती हैं,
ऊपर से ओढ़ने का वस्त्र ।
पिचुल्लंत-(हिं. स्त्री.) पीटने की क्रिया या
भाव, मारपीट ।
पिचुल्लक-(सं. पुं.) वाँस, बेंत आदि का बना
हुआ पिटारा, फुडिया, फुंसी, किसी ग्रन्थ
का विभाग या खंड ।
पिचुल्लका-(सं. स्त्री.) पिटारी, फुंसी ।
पिचुल्लना-(हिं. क्रि. अ.) आघात सहना, मार
खाना, ठोका जाना, आघात पाकर
बजना; (पुं.) छत पीटने की लकड़ी
की मुंगरी ।
पिचुल्लपिट-(हिं. स्त्री.) हलके आघात से
उत्पन्न शब्द ।
पिचुल्लरिया-(हिं. स्त्री.) देखें 'पिटारी' ।
पिचुल्लवाना-(हिं. क्रि. स.) पीटने का काम
दूसरे से कराना, दूसरे से आघात कराना,
मार खिलवाना, कुटवाना, ठोकावाना,
बजवाना ।
पिचुल्लवाई-(हिं. स्त्री.) प्रहार, आघात, पीटने
का काम, मारपीट, पिचुल्लवाने का शुक,

पीटने या मारने का वेतन ।

पितापिट-(हिं. स्त्री.) किसी वस्तु को कुछ देर तक बारंबार पीटना, मारपीट ।

पिटारा-(हिं. पुं.) बाँस, बेंत आदि की तीलियों का बिना हुआ डिब्बा जैसा पात्र ।

पिटारी-(हिं. स्त्री.) छोटा पिटारा, झाँपी ।

पिट्टक-(सं. पुं.) दाँत की मैल ।

पिट्टस-(हिं. स्त्री.) दुःख या शोक से छाती पीटना ।

पिट्टू-(हिं. वि.) जिसको मार खाने का अभ्यास हो ।

पिट्ठी-(हिं. स्त्री.) देखें 'पीठी' ।

पिट्ठ-(हिं. पुं.) सहायक, अनुयायी, पीछे चलनेवाला, खेल में साथ देनेवाला, किसी खेलाडी का वह कल्पित साथी जिसकी बारी में उसके बदले वह स्वयं खेलता है ।

पिठ-(सं. पुं.) पीड़ा, दुःख ।

पिठर-(सं. पुं.) मोथा, एक प्रकार का घर, थाली, एक दानव का नाम ।

पिठरक-(सं. पुं.) एक नाग का नाम ।

पिठरिका-(सं. स्त्री.) पात्र, थाली ।

पिठवन-(हिं. स्त्री.) पृष्ठपर्णी लता जो औषधों में प्रयुक्त होती है ।

पिठी-(हिं. स्त्री.) देखें 'पिट्ठी' ।

पिठौनी-(हिं. स्त्री.) देखें 'पिठवन' ।

पिठौरी-(हिं. स्त्री.) पीठी की बनी हुई बरी, पकौड़ी आदि ।

पिडक(का)-(सं. पुं., स्त्री.) छोटा फोड़ा फुंसी

पिडिया-(हिं. स्त्री.) चावल का लड्डू ।

पिडई-(हिं. स्त्री.) छोटा पीड़ा या पाटा ।

पितंबर-(हिं. पुं.) देखें 'पीतांबर' ।

पितपापड़ा-(हिं. पुं.) एक झाड़ जिसका उपयोग औषधों में होता है ।

पितर-(हिं. पुं.) मृत पूर्व-पुरुष, मरे हुए पुरखे जिनके नाम पर श्राद्ध और तर्पण किया जाता है; -पति-(पुं.) यमराज;

-शूर-(पुं.) वह जो पिता के सामने बूरता दिखलाता हो ।

पितराइंध, पितराई-(हिं. स्त्री.) खाद्य वस्तु में पीतल के कसाव-सा स्वाद ।

पितरिहा-(हिं. वि.) पीतल का बना हुआ; (पुं.) पीतल का घड़ा ।

पिता-(हिं. पुं.) जनक, बाप, वह जो जन्म के बाद शिशु का पालन-पोषण करता है; -मह-(पुं.) पिता का पिता, दादा, ब्रह्मा, विधाता, शिव, महादेव, भीष्म, मूँज नामक घास; -मही-

(स्त्री.) पितामह की स्त्री, दादी ।

पितिया-(हिं. पुं.) पिता का भाई, चाचा;

-ससुर-(पुं.) स्त्री या पति का चाचा;

-सास-(स्त्री.) स्त्री या पति की चाची ।

पितियानी-(हिं. स्त्री.) चाचा की स्त्री, चाची ।

पितु, पुत्र-(सं. पुं.) योग्य पिता का योग्य पुत्र ।

पितु, स्वसा-(सं. स्त्री.) पिता की बहिन, फूवा, मौसी ।

पितु-(सं. पुं.) अन्न, अनाज; (हिं. पुं.) पिता ।

पितृ-(सं. पुं.) उत्पादक, जनक पिता, वह जो शिशु का पालन-पोषण करता है, (चाणक्य ने पाँच प्रकार के पिता बत-

लाये हैं, यथा- अन्नदाता, भयत्राता, स्वसुर, जनक और उपनेता), किसी व्यक्ति के मृत बाप, दादा, परदादा

आदि, मृत पुरुष जिनका प्रेतत्व छूट गया हो, एक प्रकार के देवता जो सब जीवों के आदि पूर्वज माने गये हैं;

-ऋण-(पुं.) धर्मशास्त्र के अनुसार मनुष्य के तीन ऋणों में से एक जिस ऋण से मनुष्य पुत्र उत्पन्न करने पर

मुक्त होता है; -रु-(वि.) पैत्रिक, पिता का, पिता का दिया हुआ; -कर्म-

(पुं.) श्राद्ध, तर्पण आदि जो पितरों के उद्देश्य से किये जाते हैं; -कल्प-(वि.)

पिता के सदृश; -कानन-(पुं.) श्मशान; -कार्य-(पुं.) पितृकर्म; -कुल-(पुं.)

पिता के वंश के लोग, पिता की ओर के सम्बन्धी; -कृत-(वि.) पूर्व पुरुषों

द्वारा किया हुआ; -गण-(पुं.) मनु, मंत्री आदि के पुत्र; -गीता-(स्त्री.)

पिता की माहात्म्य-सूचक गीता; -गृह-(पुं.) श्मशान, बाप का घर, स्त्रियों का

पीहर, नैहर, मायका; -घात-(पुं.) पिता की हत्या; -तर्पण-(पुं.) पितरों के उद्देश्य से किया जानेवाला वलिदान, तर्पण आदि;

-तिथि-(स्त्री.) अमावस्या; -तीर्थ-(पुं.) गया तीर्थ, दाहिने हाथ की तर्जनी और अँगूठे के बीच का स्थान; -त्व-

(पुं.) पिता का भाव या धर्म; -दत्त-(वि.) पिता द्वारा दिया हुआ; -दान-

(पुं.) पितरों के उद्देश्य से दिया हुआ अन्न आदि का दान; -दाय-(पुं.) पिता से प्राप्त धन या सम्पत्ति, वपौती;

-दिन-(पुं.) अमावस्या; -देव-(पुं.) पितृगण के अधिष्ठाता देवता;

-द्वैत-(पुं.) मघा नक्षत्र, यम; -नाथ-(पुं.) यमराज; -पक्ष-(पुं.)

आश्विन मास का कृष्ण पक्ष, पितृकुल पिता के सम्बन्धी; -पति-(पुं.) यम-

राज; -पद-(पुं.) पितृत्व, पितर होने की स्थिति; -पितु-(पुं.) पितरों के

पिता ब्रह्मा; -प्रिय-(पुं.) पीपल का

वृक्ष, भँगैया; -भोजन-(पुं.) माष, उड़द; -मंदिर-(पुं.) पिता का घर;

-मेध-(पुं.) श्राद्ध से मिश्र वह यज्ञ जो पितरों की मृत्यु के बाद दशरात्र में किया जाता है; -यज्ञ-(पुं.) पितरों के उद्देश्य से किया जानेवाला तर्पण;

-याण-(पुं.) पितरों का चन्द्रलोक को जाने का मार्ग; -रूप-(पुं.) शिव, महा देव; -लोक-(पुं.) पितरों का लोक, वह स्थान जहाँ पितर लोग रहते हैं, (यह चन्द्रलोक के ऊपर है); -वत्-

(वि., अव्य.) पितातुल्य, पिता के सदृश;

-वत्-(पुं.) श्मशान; -वसति-(स्त्री.) श्मशान; -वित्त-(पुं.) बापदादों की सम्पत्ति; -व्य-(पुं.) पिता के भाई, चाचा; -हा-(पुं.) पिता की हत्या करनेवाला ।

पित्त-(सं. पुं.) शरीर के भीतर यकृत में बननेवाला एक तरल पदार्थ जो खाये हुए अन्न को पचाने में सहायता देता है; (मुहा.) -उबलना-तीव्र भूख लगना;

-गरम होना-शीघ्र क्रोध आना; -कर-(वि.) पित्त बढ़ानेवाला; -धन-

(वि.) पित्त का नाश करनेवाला; -उवर-(पुं.) पित्त के प्रकोप से उत्पन्न होनेवाला ज्वर; -पापड़ा-(पुं.) देखें 'पितपापड़ा'; -प्रकृति-(वि.) जिसकी प्रकृति पित्त-प्रधान हो, जिसके शरीर में वात और कफ की अपेक्षा पित्त अधिक हो; -प्रकोपी-(वि.) पित्त बढ़ानेवाला, पित्तोत्पादक; -रवत-(पुं.) एक प्रकार का रोग जो पित्त विगड़ने से उत्पन्न होता है ।

पित्तल-(सं. पुं.) पीतल नामक धातु; भोजपात्र, हरताल; (वि.) पित्तयुक्त, पित्त बढ़ानेवाला ।

पित्ता-(हिं. पुं.) पित्ताशय, जिगर में वह थैली जिसमें पित्त रहता है; साहस; (मुहा.) -उबलना-क्रोध चढ़ना; -निकालना-बड़े परिश्रम का काम करना; -भारना-क्रोध दवाना, कठिन कार्य करने में न घबड़ाना ।

पित्तात्तिसार-(सं. पुं.) पित्त के प्रकोप से होनेवाला अतिसार ।

पित्ताशय-(सं. पुं.) पित्त की थैली जो यकृत के नीचे की ओर होती है ।

पित्ती-(हिं. स्त्री.) गरमी के दिनों में पसीना मरने से शरीर में निकलनेवाले महीन दाने, एक रोग जो पित्त की अधिकता अथवा रुधिर में अधिक गरमी आ

जाने से उत्पन्न होता है, (इसमें समग्र शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं); (पुं.) पित्तव्य, चाचा।
 पित्तोदर—(सं. पुं.) पित्त के विगड़ने से होनेवाला उदर का एक रोग।
 पित्र्य—(सं. वि.) पितृ-सम्बन्धी, जिसका श्राद्ध किया जा सके; (पुं.) बड़ा भाई।
 पित्र्या—(सं. स्त्री.) अमावस्या, पूर्णमासी, मघा नक्षत्र।
 पिद्दा—(हि. पुं.) देखें 'पिद्दी', गुलेल की डोरी के बीच में लगी हुई गोली चलाने की गद्दी।
 पिद्दी—(हि. स्त्री.) बया की जाति की छोटी सुन्दर चिड़िया, फुदकी, अति तुच्छ प्राणी।
 पिघातव्य—(सं. वि.) ढापने योग्य।
 पिघान—(सं. पुं.) आवरण, आच्छादन, परदा, ढपना, किवाड़, तलवार का कोप।
 पिनकना—(हि. क्रि. अ.) ऊँघना, नीद में या अफीम के नशे में बैठे-बैठे ऊँघना।
 पिनकी—(हि. पुं.) पीनक लेनेवाला, अफीमची।
 पिनपिन—(हि. स्त्री.) रोगी या दुर्बल वच्चे का अनुनासिक स्वर में रोना, वच्चों का पिन-पिन करके रोने का शब्द।
 पिनपिनहा—(हि. वि.) पिनपिन करनेवाला अथवा निरन्तर रोनेवाला वच्चा।
 पिनपिनाना—(हि. क्रि. अ.) धीमे स्वर में हक-हककर वच्चों का रोना।
 पिनपिनाहट—(हि. स्त्री.) पिनपिन करके रोने की क्रिया या भाव, पिनपिन करके रोने का शब्द।
 पिनस—(सं. पुं.) देखें 'पीनस'।
 पिनसन, पिनसिन—(हि. स्त्री.) देखें 'पिनसन'।
 पिनाक—(सं. पुं.) शिवजी का धनुष जिसको श्रीरामचन्द्र ने जनकपुर में तोड़ा था, त्रिशूल, एक प्रकार का अश्रक।
 पिनाकी—(सं. पुं.) पिनाकधारी शिव, एक प्रकार का तार लगा हुआ प्राचीन बाजा।
 पिन्नस—(हि. स्त्री.) देखें 'पीनस'।
 पिन्ना—(हि. वि.) सर्वदा रोनेवाला; (पुं.) धुनकी।
 पिन्नी—(हि. स्त्री.) आटे या अन्य प्रकार के अन्न के चूर्ण में गुड़ या चीनी मिलाकर बनाई हुई मिठाई।
 पिन्यास—(सं. पुं.) हिंगु, हींग।
 पिन्हाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'पहिनाना'।
 पिपरामूल—(सं. पुं.) पिप्पली की जड़।
 पिपरारही—(हि. पुं.) पीपल का जंगल।
 पिपासा—(सं. स्त्री.) तृष्णा, प्यास, लोभ, लालच, अधिक प्यास की व्याधि।

पिपासित—(सं. वि.) पिपासु, प्यासा।
 पिपासु—(सं. वि.) तृषित, प्यासा, उत्कट इच्छा रखनेवाला, लालची।
 पिपियाना—(हि. क्रि. अ.) पीव निकलना।
 पिपिली—(सं. स्त्री.) पिपीलिका, चींटी।
 पिपीलक—(सं. पुं.) चींटा, च्यूंटा।
 पिपीलिका—(सं. स्त्री.) चींटी, च्यूंटी।
 पिपीली—(सं. स्त्री.) पिपीलिका, चींटी।
 पिप्पटा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की मिठाई।
 पिप्पल—(सं. पु.) जल, पानी, अश्वत्थ, पीपल का पेड़।
 पिप्पली—(सं. स्त्री.) पीपल की लता, इसका शहतूत के आकार का फल।
 पिप्पलीमूल—(सं. पुं.) पिपरामूल।
 पिप्पिका—(सं. स्त्री.) दाँतों की मैल।
 पिप्रोषा—(सं. स्त्री.) प्रीति-कामना।
 पिप्रोषु—(सं. वि.) प्रीति का अभिलाषी।
 पिय—(हि. पुं.) स्वामी, भर्ता, पति।
 पियदसी—(पुं.) सम्राट् अशोक की उपाधि।
 पियर—(हि. वि.) पीला, पीले रंग का।
 पियरई—(हि. स्त्री.) पीलापन।
 पियरवा—(हि. पुं.) प्रिय, पति, प्रेमी।
 पियरई—(हि. स्त्री.) पीलापन, जर्दी।
 पियराना—(हि. क्रि. अ.) पीला पड़ना या होना।
 पियरी—(हि. स्त्री.) पीली रंगी हुई धोती, पीलापन, एक प्रकार का पीला रंग।
 पियरोला—(हि. पुं.) पीले रंग की एक प्रकार की चिड़िया।
 पियली—(हि. स्त्री.) नारियल के खोपड़े का टुकड़ा।
 पियल्ला—(हि. पुं.) दूध पीनेवाला वच्चा।
 पियवास—(हि. पुं.) देखें 'प्रियवास'।
 पिया—(हि. पुं.) देखें 'पिय', प्रिय।
 पियादा—(हि. पुं.) देखें 'प्यादा'।
 पियाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'पिलाना'।
 पियावांसा—(हि. पुं.) कटसरैया।
 पियार—(हि. पुं.) महुए की तरह का एक वृक्ष जिसके बीज की गरी चिरींजी कहलाती है जो खाने में मीठी होती है।
 पियारा—(हि. वि.) देखें 'प्यारा'।
 पियाल—(सं. पुं.) चिरींजी का पेड़।
 पियाला—(हि. पुं.) कटोरी।
 पियास—(हि. स्त्री.) देखें 'प्यास'।
 पियासा—(हि. वि.) प्यासा।
 पियासाल—(हि. पुं.) वहेड़े या अर्जून की जाति का एक वृक्ष, पीतसाल।
 पियूख, पियूप—(हि. पुं.) देखें 'पीयूष'।
 पिरकी—(हि. स्त्री.) फुसी, फोड़िया।
 पिरता—(हि. पुं.) पूनी दवाने का काठ का टुकड़ा।

पिरथी—(हि. स्त्री.) देखें 'पृथ्वी'।
 पिरन—(हि. पुं.) चौपायों का लँगड़ापन।
 पिराई—(हि. स्त्री.) देखें 'पियराई'।
 पिराक—(हि. पुं.) एक प्रकार का चीनी, मेवे आदि का बना हुआ अर्ध-चन्द्राकार पकवान।
 पिराना—(हि. क्रि. अ.) पीड़ा होना, दुखना, पीड़ा का अनुभव करना, किसी के दुःख से दुःखित होना।
 पिरारा—(हि. पुं.) डाकू, लुटेरा।
 पिरिच—(हि. पुं.) कटोरी।
 पिरिया—(हि. पुं.) एक प्रकार का वाजा, कुएँ से पानी खींचने का रहट।
 पिरितम—(हि. पुं.) प्रिय, प्रियतम।
 पिरिता—(हि. वि.) प्रिय, प्यारा।
 पिरिति—(हि. स्त्री.) देखें 'प्रीति'।
 पिरोज—(हि. पुं.) कटोरा, छोटी थाली।
 पिरोजन—(हि. पुं.) देखें 'प्रयोजन', कनछेदन।
 पिरोजा—(फा. पुं.) हरापन लिये एक प्रकार का नीला रत्न।
 पिरोजा—(हि. स्त्री.) पीली कड़ी मिट्टी की भूमि।
 पिरोना—(हि. क्रि. स.) तागे आदि को सूँई के छेद में डालना, छेद के पार निकालना, डोरे में मनका पहिनाना, गूँथना, पोहना।
 पिरोला—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्षी।
 पिलई—(हि. स्त्री.) बरबट, तापतिल्ली।
 पिलक—(हि. पुं.) अवलक, कबूतर, एक प्रकार की पीले रंग की चिड़िया।
 पिलकना—(हि. क्रि. स.) ढकेलना, गिराना, लुढ़काना।
 पिलकिया—(हि. पुं.) एक प्रकार की छोटी चिड़िया जिसका रंग पीलापन लिये भूरा होता है।
 पिलखन—(हि. पुं.) पाकर का वृक्ष।
 पिलड़ी—(हि. स्त्री.) मसालेदार पकवान।
 पिलघना—(हि. क्रि. अ.) तत्पर होना, लीन होना, काम में लग जाना, दो मनुष्यों का परस्पर भिड़ना।
 पिलना—(हि. क्रि. अ.) एकवारगी प्रवृत्त होना या लग जाना, लिपट जाना, तैल निकालने के लिये पेटा जाना, किसी ओर एकवारगी टूट पड़ना, मिड़ जाना।
 पिलपिल, पिलपिला—(हि. वि.) इतना नरम या ढीला कि दवाने से भीतर का रस या गूदा बाहर निकल जाय।
 पिलपिलाना—(हि. क्रि. अ.) गूदेदार या रसदार वस्तु को इस प्रकार दवाना कि इसमें का रस बाहर निकलने लगे।

पिलपिलाहट—(हि. स्त्री.) अधिक पकने की नरमी या मृदुता जो गूदे या गाढ़े रस के ढीले होने के कारण आ गई हो।

पिलवाना—(हि. क्रि. स.) पिलान का काम दूसरे से कराना, दूसरे को पिलाने में लगाना, पेरवाना, पेलने या पेरने का काम कराना।

पिलाना—(हि. क्रि. स.) पीने का काम कराना, पीने को देना, भीतर करना, किसी छेद में डाल देना।

पिलिपिल—(सं. वि.) अधिक पका या घुला हुआ (फल)।

पिलुंडा—(हि. पुं.) देखें 'पुलिंदा'।

पिलु—(सं. पुं.) एक रागिनी का नाम।

पिलुनी—(सं. स्त्री.) मूर्वा लता।

पिल्ल—(सं. पुं.) आँख का एक रोग जिसमें आँखों में से कीचड़ बहा करता है।

पिल्लका—(सं. स्त्री.) हस्तिनी, हथिनी।

पिल्ला—(हि. पुं.) कुत्ते का छोटा बच्चा।

पिल्लू—(हि. पुं.) विना पैर का सफेद कीड़ा जो सड़े हुए फल, घाव आदि में पड़ जाता है।

पिव—(हि. पुं.) देखें 'प्रिय'।

पिवाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'पिलाना'।

पिशंग—(सं. पुं.) पीलापन लिये भूरा रंग, एक नाग का नाम; (वि.) घूमिल रंग का।

पिशंगक—(सं. पुं.) विष्णु भगवान।

पिशंगरूप—(सं. वि.) पीतवर्ण, पीले रंग का।

पिशंगद्व—(सं. पुं.) पीले रंग का घोड़ा।

पिशंगी—(सं. वि.) पीला।

पिशाच—(सं. पुं.) एक हीन देवयोनि,

भूत, प्रेत; -क—(पुं.) भूत-प्रेत,

भूत भगानेवाला ओझा, पीली सरसों;

-दन—(पुं, वि.) पिशाचों को हटाने

या नाश करनेवाला; -ता—(स्त्री.)

पिशाच का भाव या धर्म; -वृक्ष—(पुं.)

सिहोर का पौधा; -सभ—(पुं.) पिशाचों

की सभा।

पिशाचालय—(सं. पुं.) पिशाचों का घर।

पिशाचिका, **पिशाची**—(सं. स्त्री.) छोटी

जटामासी, स्त्री पिशाच।

पिशित—(सं. पुं.) मांस।

पिशिता—(सं. स्त्री.) जटामासी।

पिशिताशन—(सं. वि.) नर-मांस खानेवाला।

पिशील—(सं. पुं.) मिट्टी की कटोरी।

पिशुन—(सं. पुं.) कुंकुम, केशर, नारद,

कौवा, कौशिक के एक पुत्र का नाम;

(वि.) आपस में लड़ाई लगानेवाला,

धर, दुष्ट; -ता—(स्त्री.) झूरता,

चुगलखोरी।

पिशोर—(हि. पुं.) एक प्रकार की पहाड़ी झाड़ी।

पिष्ट—(सं. पुं.) सीसा, पिट्ठी, पीठी;

(वि.) चूर्ण किया हुआ; -क—(पुं.)

तिल का चूर्ण, पिष्ट, पीठी, रोटी,

कचौड़ी, पूआ, एक प्रकार का आँख का

रोग, सीसा; -का—(स्त्री.) दाल की

पीठी; -पचन—(पुं.) पीठी पकाने का

पात्र—तवा, कड़ाही; -पिड—(पुं.) पुरो-

डाश, पीठी; -पूर—(पुं.) बटक, बरी, एक

प्रकार की पीठी; -पेषण—(पुं.) पीसे

हुए को पीसना, एक बार कही हुई बात

को बारंबार दोहराना; -मेह—(पुं.)

एक प्रकार का प्रमेह जिसमें मूत्र के

साथ सफेद स्राव गिरता है; -योनि—

(पुं.) कचौरी या पूआ; -सौरभ—

(पुं.) चन्दन जिसके पीसने से सुगन्ध

निकलती है।

पिष्टोदक—(सं. पुं.) पीसे हुए चावल का

घोल।

पिसनहारी—(हि. स्त्री.) वह स्त्री जिसकी

जीविका आटा पीसकर चलती हो।

पिसना—(हि. क्रि. अ.) पीसकर तैयार

होना, पीसा जाना, चूर्ण किया जाना,

कष्ट उठाना, अधिक परिश्रम से क्लान्त

होना, दबना, कुचल जाना।

पिसवाज—(हि. पुं.) रंडियों के पहिनने

का घाघरा।

पिसवाना—(हि. क्रि. स.) पीसने का काम

दूसरे से कराना।

पिसाई—(हि. स्त्री.) पीसने की क्रिया या

भाव, पीसने का शुल्क या मजदूरी, बहुत

अधिक श्रम।

पिसाच—(हि. पुं.) देखें 'पिशाच'।

पिसान—(हि. पुं.) अन्न का महीन पिसा

हुआ चूर्ण, आटा।

पिसाना—(हि. क्रि. स.) पिसवाना।

पिसिया—(हि. पुं.) एक प्रकार का छोटा

कोमल गेहूँ।

पिसुन—(हि. पुं.) देखें 'पिशुन'।

पिमुराई—(हि. स्त्री.) सरकंडे का छोटा

टुकड़ा जिस पर लपेटकर पूनी बनाई

जाती है।

पिसैरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का हिरन।

पिसौनी—(हि. स्त्री.) पीसने का काम,

चक्की पीसने का बंधा, परिश्रम का काम।

पिस्ता—(सं. पुं.) पिस्ता।

पिस्ता—(हि. पुं.) एक छोटा पेड़ जिसका

फल अच्छे भैयों में गिना जाता है।

पिस्तौल—(अं. स्त्री.) छोटी बंदूक, तमंचा।

पिस्ती—(हि. पुं.) एक प्रकार का गेहूँ।

पिस्सू—(हि. पुं.) उड़नेवाला एक छोटा

कीड़ा जो मच्छड़ों की तरह काटता और

रक्त चूसता है।

पिहकना—(हि. क्रि. अ.) मोर, कोयल,

पपीहे आदि पक्षियों का बोलना।

पिहान—(हि. पुं.) पिधान, ढपना।

पिहित—(सं. वि.) आच्छादित, छिपा

हुआ; (पुं.) वह अर्थालंकार जिसमें

किसी व्यक्ति के मन का कोई भाव

जानकर क्रिया द्वारा अपना भाव

प्रकट करना वर्णन किया जाता है।

पिहुआ—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्षी।

पिहोली—(हि. पुं.) एक प्रकार का पौधा

जिसकी पत्तियाँ बड़ी सुगंधित होती हैं।

पौजना—(हि. क्रि. स.) रुई धुनना।

पौजरा—(हि. पुं.) देखें 'पिजड़ा'।

पौंड—(हि. पुं.) किसी गीली वस्तु का

गोला, पिंडी, पिंड, चरखे का बेलन,

पिंडखजूर, बारीर, देह, वृक्ष का तना, पेड़ी।

पौंडी—(हि. स्त्री.) देखें 'पिंडी'।

पौंडुरी—(हि. स्त्री.) देखें 'पिंडुली'।

पी—(सं. पुं.) पपीहे की बोली, देखें 'पिय'।

पीक—(हि. स्त्री.) थूक में मिला हुआ पान

का रस, ऊँची-नीची भूमि, वह रंग जो

कपड़े पर पहिली बार चढ़ाया जाता है;

-दान—(पुं.) एक प्रकार का डमरू के

आकार का पात्र जिसमें पान की पीक

थूकी जाती है, उगालदान।

पीकना—(हि. क्रि. अ.) पिहकना, पपीहे

या कोयल का बोलना।

पीका—(हि. पुं.) किसी वृक्ष का नया

कोमल पत्ता, कोपल।

पीखग—(हि. पुं.) पपीहा।

पीच—(सं. पुं.) नीचे का जवड़ा, ठुड्डी;

(हि. स्त्री.) मांड।

पीचना—(हि. क्रि. अ.) पिसना, दबना।

पीचू—(हि. पुं.) करील का कंटीला पौधा,

एक प्रकार का झाड़ू।

पीछ—(हि. स्त्री.) देखें 'पीच', मांड।

पीछा—(हि. पुं.) पश्चात् भाग, पिछला

भाग, पीछे-पीछे चलकर किसी के साथ

लगा रहना, किसी घटना के बाद का

काल; (मुहा.) -करना-खदेड़ना; -छुड़ाना।

-सम्बन्ध छोड़ाना; -छूटना-छूटकारा

प्राना, पिंड छूटना; -छोड़ना-पीछा

करना बन्द करना; -दिलाना-छूटकर

भाग जाना; -देना-किसी काम में

पहिले साथ देकर बाद को हट जाना।

पीछे—(हि.अव्य.) आगे की विरुद्ध दिशा में या पीछे की ओर, कुछ दूर पर, अन्त में, पीठ की ओर, निमित्त या कारण से, वास्ते, लिये, किसी की अनुपस्थिति या अभाव में, देश-काल के अनुसार किसी के बाद, कुछ देर बाद, अनन्तर; (मुहा.)—चलना—अनुकरण करना;—छोटना—पीछे रह जाना; पिछड़ जाना;—छोटना—किसी का पीछा करने के लिये किसी को दौड़ाना;—डालना—बटोर रखना;—पड़ना—किसी काम में निरन्तर उद्योग करना, किसी काम के लिए किसी को व्यग्र करना;—लगना—पीछे-पीछे चलना, पीछा करना;—लगाना—सहारा देना, कुछ पता लगाने के लिये किसी के साथ कर देना।

पीजन्—(हि.पुं.) ऊन धुनने की धुनकी।

पीजर—(हि.पुं.) देखें 'पिजड़ा'।

पीटन—(हि.पुं.) देखें 'पिटना'।

पीटना—(हि.क्रि.सं.) प्रहार करना, मारना, चोट देकर किसी वस्तु को चिपटा करना, किसी न किसी प्रकार से कोई वस्तु प्राप्त कर लेना, ठोकना, किसी न किसी प्रकार से कोई काम समाप्त कर लेना; (पुं.) आपत्ति, मृत्यु, शोक; (मुहा.) छाती पीटना—अत्यन्त शोक या दुःख प्रकट करना।

पीठ—(सं.पुं.) पीढा, चौकी, आसन, वह स्थान जहाँ पर जपादि करके मंत्र सिद्ध किये जाते हैं, किसी मूर्ति के नीचे का आधार, पिण्ड, कंस के एक मन्त्री का नाम, बैठने का एक विशेष ढंग, सिंहासन, देवस्थान, एक असुर का नाम, व्रत के किसी अंश का पूरक, अविष्णान, वेदी, प्रदेश, प्रान्त, आश्वासन; (हि.स्त्री.) गरदन से कटि तक का पीछे का भाग, किसी वस्तु का ऊपरी तल या भाग, पशु के शरीर का ऊपरी भाग;—का—अग्रज के वाद का; (मुहा.) चारपाई से पीठ लग जाना—रोग से अति दुर्बल होना;—ठोकना—प्रशंसा करना;—दिखाना—युद्ध से भाग जाना;—देना—साथ छोड़ना; मुँह मोड़ना;—पर का—एक ही माता से उत्पन्न एक संतति के वाद का जन्मा हुआ;—पर हाथ फेरना—बढ़ावा देना;—पर होना—सहायक होना;—पीछे—किसी की अनुपस्थिति में;—फेरना—भाग जाना;—लगना—घोड़े, बल आदि की पीठ पर घाव होना;—लगाना—पटक देना;—क—(पुं.) आसन, पीढा, चौकी;—ग—(वि.) खंज, लँगड़ा;

—गर्भ—(पुं.) वह गड्ढा जो किसी मूर्ति को बैठाने के लिये खोदा जाता है;—चक्र—(पुं.) एक प्रकार का रथ;—देवता—(पुं.) आधार-शक्ति, आदि-देवता;—पाठिका—(स्त्री.) भगवती, दुर्गा;—मर्द—(पुं.) नायक के चार सखाओं में से एक जो बोलने की चतुराई से नायिका का मान-मोचन कर सकता है, कुपित नायिका को प्रसन्न करनेवाला नायक; (वि.) अति घृष्ट, बहुत ढीठ;—स्थान—(पुं.) देवता का पावन तीर्थ-स्थान।

पीठा—(हि.पुं.) आटे की लोई में पीठी भरकर बनाया हुआ एक पकवान, पीड़ा।

पीठि—(हि.स्त्री.) देखें 'पीठ'।

पीठिका—(सं.स्त्री.) मूर्ति अथवा खंभे का मूल-भाग, पुस्तक का अध्याय।

पीठी—(हि.स्त्री.) उड़द, मूंग आदि की छिलका उतारकर पीसी हुई दाल।

पीड़—(हि.स्त्री.) सिर के बालों में बाँधने का एक प्रकार का आमूषण।

पीड़क—(सं.पुं.) दुःखदायी, पीड़ा देनेवाला, अत्याचारी, एक प्रकार का चर्म-रोग।

पीड़न—(सं.पुं.) आक्रमण द्वारा किसी देश को नष्ट करना, दुःख देना, चाँपने या दवाने की क्रिया, नाश, लोप, सूर्य अथवा चन्द्रमा का ग्रहण, किसी वस्तु को कसकर पकड़ना।

पीड़नीय—(सं.वि.) पीड़न के योग्य।

पीड़ा—(सं.स्त्री.) शारीरिक अथवा मानसिक क्लेश, वेदना, व्यथा, व्याधि, रोग, एक सुगन्धित औषधि, सिर पर पहनने की माला;—कर—(वि.) दुःखदायक;—स्थान—(पुं.) अशुभ ग्रहों के स्थान।

पीड़ित—(सं.वि.) क्लेशयुक्त, दुःखित, रोगी, दवाया हुआ, मर्दन किया हुआ; (पुं.) एक प्रकार का मन्त्र।

पीड़ुरी—(हि.स्त्री.) देखें 'पिडली'।

पीड़ा—(हि.पुं.) लकड़ी का छोटी चौकी जैसा आसन जिस पर हिन्दू लोग भोजन करते समय बैठते हैं।

पीड़ी—(हि.स्त्री.) किसी वंश या कुल में किसी विशिष्ट पूर्वज से आरंभ करके उसके पूर्व या पश्चात् के पुरुषों का गणनाक्रम, समुदाय आदि, किसी विशेष व्यक्ति अथवा प्राणी की सन्तति-समुदाय, सन्तान, सन्तति।

पीत—(सं.पुं.) हरताल, हरिचन्दन, पीला रंग, पुष्परागमणि, पुखराज, एक

प्रकार की सोमलता, पद्माख, कुसुम, प्रवाल, मूंगा, भूरा रंग; (वि.) पीले रंग का, पिया हुआ, भूरे रंग का।

पीतकद—(सं.पुं.) गाजर।

पीतक—(सं.पुं.) हरताल, अगरु, केशर, पीतल, विजयसार, मधु, पीला चन्दन, पीले रंग से रंगा हुआ वस्त्र, गाजर, सफेद जीरा, पीला लोव, चिरायता।

पीतका—(सं.स्त्री.) हलदी, कुम्भाण्ड, कटसरैया, पोई का साग, एक प्रकार का कीड़ा।

पीतकाष्ठ—(सं.पुं.) पद्मकाष्ठ, पद्माख।

पीतकेदार—(सं.पुं.) एक प्रकार का धान।

पीतगंध—(सं.पुं.) पीला चन्दन, हरिचन्दन।

पीतचन्दन—(सं.पुं.) पीले रंग का चन्दन, हरिचन्दन।

पीतचोप—(सं.पुं.) पलाश का फूल, टेसू।

पीतता—(सं.स्त्री.) पीलापन।

पीततुंड—(सं.पुं.) एक पक्षी।

पीतत्व—(हि.पुं.) देखें 'पीतता'।

पीतदार—(सं.पुं.) देवदार, हलदी, चिरायता।

पीतदुग्धा—(सं.स्त्री.) एक प्रकार का व्योहरा

पीतदू—(सं.पुं.) दाखलदी।

पीतधातु—(सं.पुं.) गोपीचन्दन, रामरज।

पीतन—(सं.पुं.) कुंकुम, केशर, हरताल, देवदार, पाकड़ का वृक्ष।

पीतनख—(सं.पुं.) नाखून का एक रोग।

पीतनाश—(सं.पुं.) लकुच, बड़हर।

पीतनी—(सं.स्त्री.) शालपर्णी, सरिवन।

पीतपरग—(सं.पुं.) कमल का केसर।

पीतपादप—(सं.पुं.) सोनापाठा, लोव का वृक्ष।

पीतपादा—(सं.स्त्री.) सारिका, मैना पक्षी।

पीतपुष्प—(सं.पुं.) घियारतोई, कनेर, चंपा, हिंगोट, लाल कचनार।

पीतपुष्पक—(सं.पुं.) बबल का पेड़।

पीतपुष्पा—(सं.स्त्री.) इन्द्रवारुणी, सहदेई, कटसरैया, अरहर, पीला कनेर, सोनजूही।

पीतपुष्पिका—(सं.स्त्री.) जंगली ककड़ी।

पीतपृष्पी—(सं.स्त्री.) महाबला, शंखपुष्पी।

पीतपृष्ठा—(सं.स्त्री.) पीली पीठ की कौड़ी।

पीतफल—(सं.पुं.) कमरख।

पीतफेन—(सं.पुं.) अरिष्टक वृक्ष, रीठा।

पीतबीजा—(सं.स्त्री.) मेथिका, मेथी।

पीतभद्रक—(सं.पुं.) एक प्रकार का बबूल।

पीतम—(हि.वि.) देखें 'प्रियतम'।

पीतमणि—(सं. पुं.) पुष्पराग, पुखराज ।
 पीतमस्तक—(सं. पुं.) एक प्रकार का वाज ।
 पीतमुंड—(सं. पुं.) एक प्रकार का हरित ।
 पीतमूलक—(सं. पुं.) गाजर ।
 पीतयूथी—(सं. स्त्री.) सोन जुही ।
 पीतर—(हिं. पुं.) देखें 'पीतल' ।
 पीतरत्न—(सं. पुं.) पीतमणि, पुखराज ।
 पीतराग—(सं. पुं.) पद्मकेसर; (वि.) पीला ।
 पीतल—(हिं. पुं.) जस्ते और ताँवे के संयोग से बनी हुई एक उपधातु ।
 पीतवर्ण—(सं. पुं.) कदंब, मैनसिल, पीला चन्दन, केसर; (वि.) पीले रंग का ।
 पीतवल्ली—(सं. स्त्री.) अमरवेल ।
 पीतवासा—(सं. वि.) पीला वस्त्र पहिनने-वाला; (पुं.) श्रीकृष्ण ।
 पीतदीजा—(सं. स्त्री.) मेथी ।
 पीतवृक्ष—(सं. पुं.) सोनापाठा ।
 पीतशाल—(सं. पुं.) असना, विजयसार नामक वृक्ष ।
 पीतशालि—(सं. पुं.) एक प्रकार का महीन धान ।
 पीतसारा—(हिं. पुं.) ससुर का भाई ।
 पीतसार—(सं. पुं.) पीला चन्दन, हरिचन्दन, मलयज चन्दन, गोमेदक मणि, अंकोल का वृक्ष, बीजक, शिलारस ।
 पीतसारक—(सं. पुं.) नीम का पेड़ ।
 पीतसारि—(सं. पुं.) सुरमा ।
 पीतसाल—(सं. पुं.) विजयसार का वृक्ष ।
 पीतस्कध—(सं. पुं.) शूकर, सूअर ।
 पीतस्फटिक—(सं. पुं.) पुष्पराग, पुखराज ।
 पीतस्फोट—(सं. पुं.) खजुली, दद्रु, दाद ।
 पीतांग—(सं. पुं.) सोनापाठा, पीला मेढक, नारंगी का पेड़, हरिद्रा, हल्दी ।
 पीतांबर—(सं. पुं.) विष्णु, कृष्ण, पीला कपड़ा, रेशमी धोती जिसको पहिनकर लोग पूजा-पाठ करते हैं; (वि.) पीले वस्त्रवाला ।
 पीता—(सं. स्त्री.) हल्दी, दारुहल्दी, अतीस, गोरोचन, हरताल, देवदार, राल, असगन्ध, आकाशवल्ली; (वि. स्त्री.) पीले रंग की ।
 पीताम्बि—(सं. पुं.) अगस्त्य मुनि ।
 पीताभ—(सं. पुं.) पीला चन्दन; (वि.) जिसमें पीली आभा हो ।
 पीताम्भ—(सं. पुं.) पुष्पराग मणि, पुखराज ।
 पीति—(सं. पुं.) धोड़ा, हाथी की सूँड़, गति ।
 पीतिक्रा—(सं. स्त्री.) हरिद्रा, हल्दी ।
 पीतु—(सं. पुं.) सूर्य, अग्नि, ऐरावत ।
 पीथ—(सं. पुं.) जल, पानी, धी, सूर्य, अग्नि ।
 पीदड़ी—(हिं. स्त्री.) देखें 'पिटी' ।
 पीन—(सं. वि.) पुष्ट, स्थूल सम्पन्न,

कठिन, प्रवृद्ध; (पुं.) स्थूलता, मोटाई ।
 पीनक—(हिं. स्त्री.) अप्रीम के नसे में बैठे-बैठे ऊँधना, पिनकना ।
 पीनता—(सं. स्त्री.) स्थूलता, मोटाई ।
 पीनना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'पीजना' ।
 पीनस—(सं. पुं.) नाक का एक रोग; (हिं. स्त्री.) पालकी ।
 पीनसा—(सं. स्त्री.) कर्कटी, ककड़ी ।
 पीना—(हिं. क्रि. स.) जल या जल के समान अन्य वस्तु को घूँट-घूँट करके गले के नीचे उतारना, घूँटना, मद्य पीना, सोखना, चूसना, वृषपान करना; हुक्का, चुष्ट आदि का धुआँ भीतर खींचना, सहन करना, उपेक्षा करना, क्रोध या उत्तेजना प्रगट न करना, मनोविकार को भीतर ही दबा देना, कुछ भी शेष या बाकी न रहना, किसी संबंध में मौन धारण करना, किसी बात को दबा देना; (सं. पुं.) तीसी आदि की खली; (मुहा.) लोह का घूँट पीना—किसी बात को बड़ कष्ट से सहन कर लेना ।
 पीनी—(हिं. स्त्री.) तीसी, तिल आदि की खली ।
 पीप—(हिं. स्त्री.) फूटे हुए फोड़े या घाव के भीतर से निकलनेवाला लसलसा सफेद पदार्थ, पीव, मवाद ।
 पीपर—(हिं. पुं.) देखें 'पीपल' ।
 पीपरपन—(हिं. पुं.) कान में पहिनने का एक गहना ।
 पीपरामूल—(हिं. पुं.) देखें 'पीपलामूल' ।
 पीपल—(हिं. पुं.) बरगद की जाति का एक प्रसिद्ध वृक्ष जिसको हिन्दू लोग बहुत पवित्र मानते हैं; (स्त्री.) एक लता जिसके पत्ते पान की तरह होते हैं; (इसकी कलियाँ औषधों में प्रयुक्त होती हैं ।)
 पीपलामूल—(हिं. पुं.) पीपल लता की जड़, पिप्परामूल ।
 पीपा—(हिं. पुं.) ढोल के आकार का लोहे या काठ का बड़ा पात्र जो तेल आदि रखने के काम म लाया जाता है ।
 पीव—(हिं. स्त्री.) देखें 'पीप' ।
 पीथ—(हिं. पुं.) देखें 'पिय' ।
 पीथर—(हिं. वि.) पीला, पीले रंग का ।
 पीथु—(सं. पुं.) सूर्य, काल, समय, थक, उल्लू पक्षी; (वि.) प्रतिकूल, विरुद्ध, हिंसा करनेवाला ।
 पीथूख—(हिं. पुं.) देखें 'पीथूप' ।
 पीथूप—(सं. पुं.) सुधा, अमृत, दूध, गाय के ब्याने पर उसका सात दिन तक का दूध; -महा, -भानु—(पुं.) चन्द्रमा; -रुचि—(पुं.) अमृत, कपूर, चन्द्रमा;

-वर्ष—(पुं.) चन्द्रमा, कपूर, एक प्रकार का मांत्रिक छन्द जिसको आनन्दवर्षक भी कहते हैं ।
 पीथुषोत्था—(सं. स्त्री.) सालम-मिल्ली ।
 पीर—(हिं. स्त्री.) सहानुभूति, करुणा, दया, पीड़ा, दुःख, प्रसव-वेदना; (फ्रा. पुं.) मुसलमानों के धर्मगुरु ।
 पीरमान—(हिं. पुं.) मस्तूल पर के वे डंडे जिन पर पाल चढ़ाया जाता है ।
 पीरा—(हिं. स्त्री.) देखें 'पीड़ा'; (वि.) देखें 'पीला' ।
 पीर—(हिं. पुं.) एक प्रकार का मुर्गा ।
 पीरोजा—(हिं. पुं.) देखें 'फीरोजा' ।
 पीरक—(सं. पुं.) पिपीलिका, चींटी; (हिं. पुं.) एक प्रकार की पीले रंग की चिड़िया ।
 पीरपाल—(हिं. पुं.) हाथीवान, महावत ।
 पीरपाँव—(हिं. पुं.) श्लीपद, पैर फूल जाने का एक रोग ।
 पीरवा(वा)न—(हिं. पुं.) हाथीवान, महावत ।
 पीरसोज—(हिं. पुं.) दीपक जलाने की दीपत ।
 पीला—(हिं. पुं.) एक प्रकार का हल्दी या सोने के सदृश रंग, शतरंज का एक मोहरा; (वि.) निस्तेज, फीका, धुँधला, पीत; (मुहा.) -पड़ना या होना—रोग या मय के कारण शरीर तथा मुख का रंग पीला होना ।
 पीलापन—(हिं. पुं.) पीला होने का भाव, जर्दी ।
 पीलाम—(हिं. पुं.) साटन नामक कपड़ा ।
 पीलिया—(हिं. पुं.) कामला रोग जिसमें मनुष्य का संपूर्ण शरीर और आँखें पीली पड़ जाती हैं ।
 पीली चिट्ठी—(हिं. स्त्री.) विवाह का निमन्त्रण-पत्र ।
 पीलु—(सं. पुं.) फूल, परमाणु, हाथी, अस्थि-खण्ड, हड्डी का टुकड़ा, कीड़ा, बाण, अख-रोट का वृक्ष, लाल केटसरैया का फल ।
 पीलुआ—(हिं. पुं.) मछली पकड़ने का बड़ा जाल ।
 पीलुक—(सं. पुं.) एक प्रकार का चींटा ।
 पीलुनी—(सं. स्त्री.) चने का साग ।
 पीलु—(हिं. पुं.) सफेद लंब कीड़े जो फलों के सड़ने पर उनमें पड़ जाते हैं, एक प्रकार का रोग, एक प्रकार का कैंटीला पीषा ।
 पीव—(हिं. पुं.) पिय, पति; (स्त्री.) देखें 'पीव' ।
 पीवना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'पीना' ।
 पीवर—(सं. वि.) स्थूल, गुरु, भारी, मोटा; (पुं.) जटा, कछुआ; -स्व—(पुं.) स्थूलता, मोटापन; -स्तनी—(स्त्री.) बड़े थन की गाय ।
 पीवरा—(सं. स्त्री.) असगन्ध, सतावर;

(वि.स्त्री.) स्थूल, मोटी ।
 पीवरी—(सं.स्त्री.) तरुणी, युवती स्त्री, गाय ।
 पीवस—(सं. वि.) स्थूल, मोटा ।
 पीवा—(हिं. वि.) स्थूल, पुष्ट, मोटा ।
 पीसना—(हिं.क्रि. स.) रगड़कर बूकनी करना, मुरकुस करना, कठोर परिश्रम करना, किसी वस्तु को जल के योग से रगड़कर महीन करना; (पुं.) पीसी जानेवाली वस्तु, एक मनुष्य के पीसने भर अनाज; (मुहा.) किसी को पीसना—अत्यन्त कष्ट देना ।
 पीसू—(हिं. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा, देखें 'पिस्तू' ।
 पीह—(हिं. स्त्री.) वसा ।
 पीहर—(हिं. पुं.) विवाहित स्त्रियों के माता-पिता का घर, मायका ।
 पीं—(सं. पुं.) पुरुष, नर ।
 पील—(सं. पुं.) एक प्रकार का वाज पक्षी ।
 पीखित—(हिं. वि.) पक्षयुक्त ।
 पीगफल, पीगीफल—(हिं. पुं.) सुपारी ।
 पीछल्ला—(हिं. पुं.) देखें 'पूछाला' ।
 पीछार—(हिं. पुं.) मयूर, मोर ।
 पीछाला—(हिं. पुं.) पीछ की तरह जोड़ी हुई वस्तु, पीछल्ला, अनावश्यक वस्तु जो किसी के साथ जोड़ी हुई हो, आश्रित, साथ न छोड़नेवाला ।
 पींज—(हिं. पुं.) समूह, ढेर ।
 पींजराज—(सं. पुं.) दलपति, सरदार ।
 पीजा—(हिं. पुं.) समूह, गुच्छा, पूला ।
 पीजिफ—(सं. पुं.) हिम ।
 पीजी—(हिं. स्त्री.) देखें 'पूंजी' ।
 पीजीकृत—(हिं. वि.) इकट्ठा किया हुआ ।
 पीजीभूत—(हिं. वि.) राशीभूत, एकत्रित ।
 पीड—(सं. पुं.) माथे पर लगाने का तिलक, टीका; (हिं. पुं.) दक्षिण देश की एक जाति ।
 पींडरीक—(सं. पुं.) सफेद कमल, एक प्रकार का कुष्ठ, रेशम का कीड़ा, सफेद सर्प, दोने का पौधा, कमण्डलु, एक प्रकार का घान, सफेद आम, आग, वाण, सफेद हाथी, एक प्रकार की ऊख, धी, चीनी, एक प्रकार का तिलक ।
 पींडरीकाक्ष—(सं. पुं.) विष्णु भगवान ।
 पींडरीयक—(सं. पुं.) स्थूल-कमल ।
 पींड्र—(सं. पुं.) श्वेत कमल, पाकर का वृक्ष, तिल का पौधा, तिलक, टीका, एक प्रकार की ऊख, माघवी लता, कुमि, कीड़ा; —केलि—(स्त्री.) हाथी; —वर्धन—(पुं.) प्राचीन पींड्र देश की राजधानी ।
 पींधवल—(सं. पुं.) मूषिका, चूहा ।
 पींग्र—(सं. पुं.) वह मन्त्र जिसके अन्त में

'नमः' या 'स्वाहा' हो ।
 पींयान—(सं. पुं.) वह सवारी जिसको मनुष्य खींचते हों, पालकी ।
 पींरत्न—(सं. पुं.) पुरुषों में श्रेष्ठ ।
 पींराशि—(सं. पुं.) मेघ, मिथुन, सिंह, तुला, धन और कुम्भ राशियाँ ।
 पींलक्षणा—(सं. स्त्री.) पुरुष-मुखी स्त्री, योनिहीन स्त्री ।
 पींलिंग—(सं. पुं.) पुरुष का चिह्न, शिरन, पुरुषवाचक शब्द ।
 पींवंशा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसके केवल पुरुष सन्तानें हों ।
 पींवंत्—(सं. अव्य.) पुरुष की तरह, पींलिंग-शब्द की तरह ।
 पींवृष—(सं. पुं.) छछूंदर ।
 पींवेश—(सं. पुं.) पुरुष का वेश; (वि.) पुरुष की तरह वेशधारी ।
 पींश्चल—(सं. पुं.) व्यभिचारी पुरुष ।
 पींश्चली—(सं. स्त्री.) व्यभिचारिणी, असती, कुलटा, छिनार ।
 पींश्चलीय—(सं. पुं.) वेश्यापुत्र, कुलटा का पुत्र ।
 पींस—(हिं. पुं.) पुष्प, मर्द ।
 पींसवन—(सं. पुं.) दुग्ध, दूध, द्विजों के सोलह संस्कारों में से एक जो गर्भाधान के तीसरे महीने में किया जाता है, वैष्णवों के एक व्रत का नाम ।
 पींसवान—(हिं. वि.) पुत्रवाला ।
 पींस्कामा—(सं. स्त्री.) पुरुष की अभिलाषा करनेवाली स्त्री ।
 पींस्कोकिल—(सं. पुं.) नर कोयल पक्षी ।
 पींस्त्व—(सं. पुं.) पुरुषत्व, पुरुष का धर्म, शुक, वीर्य ।
 पींआ—(हिं. पुं.) चाशनी में पागी हुई आटे की घी में तली हुई पूरी या टिकिया ।
 पींआई—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का सदा-बहार वृक्ष ।
 पींआल—(हिं. पुं.) एक प्रकार का जंगली वृक्ष, देखें 'पीयाल' ।
 पींकार—(हिं. स्त्री.) रक्षा या सहायता के लिये चिल्लाहट, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये किसी को ऊँचे स्वर से संबोधन करना, किसी को नाम लेकर बुलाने की क्रिया, हाँक, माँगने की चिल्लाहट, किसी अधिकारी से दुःख या हानि का निवेदन, अभियोग, गोहार ।
 पींकारना—(हिं. क्रि. स.) रक्षा के लिये चिल्लाना, गोहार लगाना, धोषित करना, चिल्लाकर कहना, दुहाई देना, किसी का नाम लेकर बुलाना, किसी से

चिल्लाकर कुछ माँगना या कहना ।
 पींककश, पींककस—(सं. वि., पुं.) अघम, नीच, चाण्डाल ।
 पींकसी—(सं. स्त्री.) नील का पौधा ।
 पींख—(हिं. पुं.) देखें 'पुष्य' ।
 पींखता—(हिं. वि.) दूढ़, टिकाऊ, मजबूत ।
 पींखर—(हिं. पुं.) पुष्कर, तालाव ।
 पींखराज—(हिं. पुं.) पीले रंग का एक रत्न ।
 पींख्य—(हिं. पुं.) देखें 'पुष्य' ।
 पींगना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'पूजना' ।
 पींगाना—(हिं. क्रि. स.) पूरा करना, पूजाना ।
 पींचकार—(हिं. स्त्री.) प्यार जताने के लिये ओठों से किया जानेवाला चूमने का शब्द, चुमकार ।
 पींचकारना—(हिं. क्रि. स.) ओठों से चूमने का-सा शब्द करते हुए प्यार दिखलाना, चुमकारना ।
 पींचकारी—(हिं. स्त्री.) प्यार दिखलाने के लिये ओठों से उत्पन्न किया जानेवाला चूमने का-सा शब्द, चुमकार ।
 पींचारना—(हिं. क्रि. स.) पीतना, पुचारा देना ।
 पींचारा—(हिं. पुं.) किसी वस्तु के ऊपर पानी से तर किया हुआ कपड़ा फेरना, वह गीला कपड़ा जिससे पीता या पुचारा दिया जाता है, पतला लेप करने की क्रिया, पानी में घोली हुई कोई वस्तु जिससे लेप किया जाता है, हलका लेप, उत्साह बढ़ाने की बात, झूठी प्रशंसा, प्रसन्न करने के लिये मीठे वचन बोलना, दगी हुई बन्दूक या तोप की गरम नली को ठंडा करने के लिये उस पर गीला कपड़ा रखना ।
 पींच्छंतक—(सं. पुं.) तक्षक वंश का एक नाग ।
 पींच्छ—(सं. पुं.) लांगुल, पूँछ, किसी वस्तु का पिछला भाग, वालों से युक्त पूँछ ।
 पींच्छफंटक—(सं. पुं.) वृश्चिक, बिच्छू ।
 पींच्छदी—(सं. स्त्री.) अंगुली चटकाना ।
 पींच्छफल—(सं. पुं.) बेर का फल या पेड़ ।
 पींच्छमूल—(सं. पुं.) पूँछ की जड़ ।
 पींच्छल—(सं. वि.) पूँछवाला; —तारा—(पुं.) देखें 'केतु' ।
 पींच्छिक—(सं. पुं.) जंगली उड़द ।
 पींच्छी—(सं. पुं.) मदार, मुरगा; (वि.) पूँछवाला ।
 पींछल्ला—(हिं. पुं.) आश्रित, पीछे लगा रहनेवाला, साथ न छोड़नेवाला, अनावश्यक वस्तु जो साथ में जुटी हो, पूँछ की तरह की कोई वस्तु ।
 पींछवैया—(हिं. पुं.) पूछनेवाला, खोज-खबर लेनेवाला ।

पुष्पार-(हि. पुं.) पूछनेवाला, आदर करनेवाला, खोज लेनेवाला ।
पुष्पिया-(हि. पुं.) दुंवा मेड़ा ।
पुष्पैया-(हि. पुं.) पूछनेवाला, पुष्पवैया ।
पुष्पना-(हि. क्रि. अ.) सम्मानित होना, पूजा जाना, पूरा होना ।
पुष्पवाना-(हि. क्रि. स.) पूजा करने में प्रवृत्त कराना, आदर-सम्मान कराना, पूरा कराना ।
पुष्पाई-(हि. स्त्री.) पूजने का भाव या क्रिया, पूरा करने की क्रिया या भाव, पूजा करने का शुल्क ।
पुष्पाना-(हि. क्रि. स.) पूजा में प्रवृत्त अथवा नियुक्त करना, दूसरे से पूजा कराना, आदर-सम्मान कराता, भेंट चढ़वाना, घन लेना; धाव, चोट आदि का भरना, पूर्ति करना, कमी दूर करना, सफल करना ।
पुष्पापा-(हि. पुं.) पूजा की सामग्री, पूजा की सामग्री रखने का पात्र ।
पुष्पारी-(हि. पुं.) देवमूर्ति की नियमतः पूजा करनेवाला, वह जो पूजा करता हो ।
पुष्पाही-(हि. स्त्री.) पूजा की सामग्री रखने का पात्र ।
पुष्पेरी-(हि. पुं.) देखें 'पुष्पारी' ।
पुष्पैया-(हि. पुं.) पूजा करनेवाला, पूरा करनेवाला, भरनेवाला, देखें 'पुष्पाई' ।
पुष्पौरा-(हि. पुं.) पूजा के समय देवता को अर्पण करने की सामग्री, पूजा ।
पुष्प-(सं. पुं.) जायफल, घोड़े की टाप, कटोरा, औषध पकाने का पात्र, अन्तःपट, एक वर्षावृत्त का नाम, दोना, ढाँपने की वस्तु, घेरा; (हि. पुं.) किसी वस्तु को हलका मेल देने के लिए उस पर डाला हुआ छीटा, हलका छिड़काव, बहुत हलका मेल देने के लिये घुले हुए रंग या किसी तरल मिश्रण में डवाना, थोड़ी सी मिलावट ।
पुष्पकंद-(सं. पुं.) बाराहीकन्द ।
पुष्पकित-(सं. वि.) आवद्ध, बँधा हुआ ।
पुष्पकिनी-(हि. स्त्री.) पश्चिनी, कमलिनी, पद्मसमूह, पद्मलता ।
पुष्पकी-(हि. स्त्री.) दैवी आपत्ति, आकस्मिक मृत्यु, पोटली, गठरी, तरकारी आदि के रसे को गाढ़ा करने के लिये मिलाया हुआ बेसन या आटा ।
पुष्पगीव-(सं. पुं.) गगरी, ताँबे का घड़ा ।
पुष्पपाक-(सं. पुं.) मिट्टी आदि के पात्र में औषधि रखकर तथा उसका मुख अच्छी तरह से बन्द करके गड़ढे के

भीतर गोहरा जलाकर पकाने की विधि ।
पुष्पभेद-(सं. पुं.) नदी आदि का चक्राकार जलावत, पानी का भँवर ।
पुष्पभेदक-(सं. पुं.) स्तरित पत्थर ।
पुष्परिया-(हि. स्त्री.) देखें 'पोटली' ।
पुष्परी-(हि. स्त्री.) देखें 'पोटली' ।
पुष्पास,पोटाश-(हि.पुं.) एक जहरीलाक्षार ।
पुष्पिका-(सं. स्त्री.) इलायची, संपुट, पुड़िया ।
पुष्पित-(सं. वि.) फटा हुआ, सिला हुआ, बंद, संकुचित, सिकुड़ा हुआ ।
पुष्पिनी-(सं. स्त्री.) फेनी नाम की मिठाई ।
पुष्पी-(सं. स्त्री.) कौपीन, लँगोटी, छोटा कटोरा, छोटा दोना, पुड़िया ।
पुष्पोदक-(सं. पुं.) नारिकेल, नारियल ।
पुष्पा-(हि. पुं.) चूतड़ का ऊपरी मांसल भाग, पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग, चौपायों का चूतड़, घोड़ों की संस्थासूचक शब्द ।
पुष्पठी-(हि. स्त्री.) बैलगाड़ी के पहिये के घेरे का वह अर्ध चन्द्राकार खंड जिसमें आरे जड़े रहते हैं ।
पुष्पवार-(हि. अव्य.) पीछे, बगल में ।
पुष्पवाल-(हि. पुं.) पुष्पारक्ष, चोरों के दल का वह मनुष्य जो सेंध के मुँह पर पहरा देता है ।
पुष्पा-(हि. पुं.) बड़ी पुड़िया, ढोल मढ़ने का चमड़ा ।
पुष्पिया-(हि. स्त्री.) (विपत्ति आदि का) भण्डारघर या खान, मोड़कर लपेटा हुआ कागज या पत्ता जिसमें कोई वस्तु रखी जाय, पुड़िया में लपेटे हुई दवा की एक मात्रा ।
पुष्पी-(हि. स्त्री.) ढोल मढ़ने का चमड़ा ।
पुष्प-(सं. पुं.) धर्म का कार्य, मला काम, सुकृत, शुभ कार्य का संचय; (वि.) धर्म-विहित, पवित्र, शुभ, सुन्दर, अच्छा, सुगन्धित; -क-(पुं.) पुष्प देनेवाला व्रत, विष्णु; -कर्ता-(पुं.) पुष्प या शुभ कार्य करनेवाला; -कर्म-(पुं.) शुभ काम, जिस कार्य के करन से पुष्प होता है; -काल-(पुं.) शुभ समय, दान-पुष्प करने का काल; -कीर्तन-(पुं.) विष्णु; धर्म-ग्रंथों का पाठ; -कीर्ति-(वि., स्त्री.) पुष्प कीर्ति, जिसके कीर्तन से पुष्प होता है; -कृत-(पुं., वि.) पुष्पकर्ता, धार्मिक; -क्षेत्र-(पुं.) पुष्प-भूमि, आर्यावर्त जहाँ जाने से पुष्प होता है; -गंध-(पुं.) पवित्र गन्ध, चम्पा; -गंधि-(वि.) पवित्रगन्ध-युक्त; -गर्भा-(स्त्री.) गंगा; -गृह-

(पुं.) पुष्पशाला, धर्म-क्षेत्र; -जन-(पुं.) सज्जन, धर्मात्मा, यक्ष; -जने-श्वर-(पुं.) कुबेर; -ता-(स्त्री.) पुष्प कर्म का फल; -दर्शन-(वि.) जिसके दर्शन का फल शुभ हो; (पुं.) नीलकण्ठ पक्षी; -नामन्-(पुं.) कातिकेय के एक अनुचरा का नाम; -प्रतप-(पुं.) पुष्प का बल; (वि.) प्रतापवान्; -प्रद-(वि.) पुष्प देनेवाला; -फल-(पुं.) लक्ष्मी के रहने का वन, पुष्प के अनुष्ठान का फल; -भाज्-(वि.) पुष्पात्मा; -भूमि-(स्त्री.) आर्यावर्त देव, पुत्रवती स्त्री; -रात्र-(पुं.) पवित्र रात; -लोक-(पुं.) पुष्प वाम, चन्द्रलोक की प्राप्ति, स्वर्ग; -वत्-(वि.) पुष्पयुक्त, धर्मात्मा; -वान्-(वि.) धर्मात्मा, पुष्प करनेवाला; -शकुन-(पुं.) शुभ शकुन या चिह्न; -शाला-(स्त्री.) पवित्र गृह, पाकगृह; -शील-(वि.) पुष्प स्वभाव का, अच्छे स्वभाववाला; -श्लोक-(पुं.) विष्णु, युधिष्ठिर, राजा नल; (वि.) पुष्पचरित्रवाला, पवित्र आचरणवाला; -श्लोका-(स्त्री.) द्रौपदी, सीता; -सम-(अव्य.) पुष्पतुल्य, पुष्प के समान; -स्थान-(पुं.) पवित्र स्थान, तीर्थस्थान ।
पुष्पा-(सं. स्त्री.) तुलसी ।
पुष्पाई-(हि. स्त्री.) पुष्प का फल, पुष्प का प्रभाव ।
पुष्पात्मा-(सं. वि.) पुष्पशील, धर्मात्मा, जो पुष्प करने में प्रवृत्त हो ।
पुष्पालकृत-(सं. स्त्री.) पुष्पात्मा ।
पुष्पाह-(सं. पुं.) पुष्प दिन, शुभ दिवस ।
पुष्पाहवाचन-(सं. पुं.) देवादि कर्म में मंगल के निमित्त 'पुष्पाह' शब्द का तीन बार उच्चारण ।
पुष्पोदय-(सं. पुं.) पुष्प कर्म का उदय ।
पुष्परिया, पुष्परी-(हि. स्त्री.) देखें 'पुष्पली' ।
पुष्पला-(हि. पुं.) (लकड़ी, मिट्टी, घातु) आदि कपड़े की बनी हुई मूर्ति ।
पुष्पली-(हि. स्त्री.) (लकड़ी, मिट्टी, घातु) कपड़े आदि की बनी हुई स्त्री की आकृति, गुड़िया, आँख के बीच का काला भाग, घोड़े की टाप का निकला हुआ भाग, कपड़ा बुनने का यन्त्र, सुंदर और आकर्षक शोभावाली स्त्री; (गृहा.) -फिर जाना-आँखें पथरा जाना; -घर-(पुं.) कपड़ा बुनने का कारखाना ।
पुष्पाई-(हि. स्त्री.) पोतने की क्रिया या भाव, भीत आदि पर मिट्टी, गोबर, चूना

आदि पोतने का काम, पोतने का शुल्क ।
पुतारा—(हि. पु.) पोतने के लिये भिगाया हुआ कपड़ा ।

पुत्र—(हि. पुं.) देखें 'पुत्र', बेटा ।

पुत्ररी—(हि. स्त्री.) पुत्री, बेटे ।

पुत्रल, पुत्रलक—(सं. पुं.) पुत्रला ।

पुत्रलिका—(सं. स्त्री.) (लकड़ी, मिट्टी, घातु) कपड़े आदि की बनी हुई गुड़िया, पुतली ।

पुत्रली—(सं. पुं.) गुड़िया, पुतली ।

पुत्रिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की मधु-मक्खी ।

पुत्र—(सं. पुं.) तनय, तनुज, लडका, बेटा ;

—क—(पुं.) पुत्र, बेटा, शरभ, टिड्डी, फर्तिगा, दौने का पौधा, एक प्रकार का चूहा ;

—काम—(वि.) पुत्राभिलाषी ;

—कार्षेयि—(स्त्री.) पुत्र प्राप्त करने के निमित्त किया जानेवाला यज्ञ ;

—कृतक—(पुं.) दत्तक पुत्र ;

—कृत्य—(पुं.) पुत्र का कार्य, पुत्रत्व ;

—कनी—(स्त्री.) पुत्रघातिनी स्त्री ;

—जात—(वि.) जिसको पुत्र उत्पन्न हुआ हो ;

—जीव—(पुं.) पितृजिया नामक वृक्ष जिसकी छाल और बीज औषधों में प्रयुक्त होते हैं ;

—ता—(स्त्री.) —त्व—(पुं.) पुत्र का धर्म ;

—दा—(स्त्री.) लक्ष्मणाकन्द, सफेद भटकटैया ;

—पौत्र—(पुं.) पुत्रों-पोतों का समुदाय ;

—प्रदा—(स्त्री.) सफेद भटकटैया ;

—भाव—(पुं.) पुत्रत्व, पुत्रता ;

—वत्—(वि.) पुत्र-तुल्य, पुत्र के सदृश ;

—वती—(वि. स्त्री.) जिसके पुत्र हों, पुत्रवाली ;

—वत्सल—(वि.) पुत्र के प्रति अधिक प्रेमयुक्त ;

—वधू—(स्त्री.) पुत्र की पत्नी, पतोहू ;

—शृंगी—(स्त्री.) मेढ्रासिगी ;

—सख—(पुं.) पुत्र का मित्र ;

—हत्—(वि.) जिसका पुत्र मर गया हो ;

(पुं.) वशिष्ठ ।

पुत्रिका—(सं. स्त्री.) कन्या, बेटे, पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा पुत्र के स्थान पर मानी हुई कन्या, पुतली, गुड़िया, आँख की पुतली ;

—पुत्र—(पुं.) बेटे का बेटा, नाती ।

पुत्रो—(सं. वि.) पुत्रवाला, पुत्रवान् ; (स्त्री.) सुता, कन्या, बेटे ।

पुत्रोय—(सं. वि.) पुत्र-संबंधी ।

पुत्रष्टि—(सं. स्त्री.) वह यज्ञ जो पुत्र की कामना से किया जाता है ।

पुत्रोत्सव—(सं. पुं.) पुत्र के जन्म-दिन पर किया जानेवाला उत्सव ।

पुत्रगल—(सं. पुं.) देह, शरीर, आत्मा, परमाणु, पंचगूत ।

पुनः—(हि. अव्य.) दोबारा, दूसरी बार,

फिर, अनन्तर, उपरान्त, पीछे ; —पराजय—(पुं.) फिर से हार ; —पाक—(पुं.) दूसरी बार पाक ; —पुनः—(अव्य.) बारंबार ; —संस्कार—(पुं.) दूसरी बार उपनयन आदि संस्कार ।

पुन—(हि. पु.) पुण्य, धर्म ।

पुनना—(हि. क्रि. स.) भला-बुरा कहना ।

पुनरपगम—(सं. पुं.) फिर से जाना ।

पुनरपि—(सं. अव्य.) फिर से ।

पुनरवसु—(हि. पुं.) देखें 'पुनर्वसु' ।

पुनरभिधान—(सं. पुं.) दुबारा कथन ।

पुनरागत—(सं. वि.) प्रत्यागत, दुबारा आया हुआ ।

पुनरागम—(सं. पुं.) फिर से आना ।

पुनरागमन—(सं. पुं.) द्वितीय बार आगमन, फिर से आना, संसार में फिर जन्म लेना ।

पुनरादि—(सं. वि.) प्रथम, पहिला ।

पुनराभयन—(सं. पुं.) पुनरागमन ।

पुनरावर्त—(सं. पुं.) पुनरागमन, चक्कर ।

पुनरावर्ती—(सं. वि.) बारबार आनेवाला, फिर जन्म लेनेवाला ।

पुनरावृत्त—(सं. वि.) फिर से कहा हुआ, फिर से घूमकर आया हुआ, लौटा हुआ ।

पुनरावृत्ति—(सं. स्त्री.) पुनर्जन्म, फिर से घूमकर आना, किये हुए काम को फिर से करना, पुनरुक्ति ।

पुनराहार—(सं. पुं.) दुबारा भोजन ।

पुनरुक्त—(सं. वि.) फिर से कहा हुआ ।

पुनरुक्तता—(सं. स्त्री.) साहित्य में वह दोष जो एक शब्द, भाव आदि को दुबारा कहने से होता है ।

पुनरुक्तवदाभास—(सं. पुं.) वह अलंकार जिसमें पुनरुक्ति या उसका आभास जान पड़े, परन्तु वस्तुतः ऐसा न हो ।

पुनरुक्ति—(सं. स्त्री.) एक बार कही हुई बात को फिर से कहना, कहे हुए वचन को दोहराना ।

पुनरुत्पत्ति—(सं. स्त्री.) पुनर्जन्म ।

पुनर्गमन—(सं. पुं.) दुबारा गमन, पुनः या फिर से जाना ।

पुनर्ग्रहण—(सं. पुं.) फिर से लेना, पुनरुक्ति ।

पुनर्जन्म—(सं. पुं.) फिर से उत्पत्ति, एक शरीर छूटने पर दूसरा शरीर धारण करना ।

पुनर्जाति—(सं. वि.) फिर से उत्पन्न ।

पुनर्नवा—(सं. स्त्री.) एक छोटा पौधा जिसकी पत्तियाँ चौराई की पत्तियों के समान होती हैं, गदहपुरना ।

पुनर्भव—(सं. पुं.) नख, फिर से होना ।

पुनर्भाव—(सं. पुं.) मृत्यु के बाद फिर से जन्म ।

पुनर्भू—(सं. स्त्री.) वह विधवा जिसका विवाह पति के मरने पर दूसरे पुरुष से हुआ हो ।

पुनर्मृत्यु—(सं. स्त्री.) दुबारा मृत्यु ।

पुनर्यज्ञ—(सं. पुं.) फिर से किया हुआ यज्ञ ।

पुनर्लभि—(सं. पुं.) खोई हुई वस्तु को फिर से पाना ।

पुनर्वचन—(सं. पुं.) किसी वाक्य का बार-बार प्रयोग ।

पुनर्वसु—(सं. पुं.) विष्णु, शिव, कात्यायन मुनि, सत्ताईस नक्षत्रों में से सातवाँ नक्षत्र, एक लोक ।

पुनर्विवाह—(सं. पुं.) दुबारा विवाह ।

पुनर्वासी—(हि. स्त्री.) पूर्णिमा ।

पुनि—(हि. अव्य.) पुनः, फिर से, दुबारा ।

पुनिम—(हि. स्त्री.) पूर्णिमा ।

पुनी—(हि. स्त्री.) पूर्णिमा, पूनी ; (वि., पुं.) पुण्यात्मा, धर्मात्मा ।

पुनीत—(हि. वि.) पवित्र, शुद्ध, पाक ।

पुन—(हि. पुं.) देखें 'पुण्य' ।

पुन्नाग—(सं. पुं.) एक बड़ा सदावहार वृक्ष, सुलताना चम्पा, श्वेत पद्म, सफेद कमल, जातिफल, जायफल ।

पुन्नाट—(सं. पुं.) चकवँड़ का पौधा ।

पुन्य—(सं. पुं.) देखें 'पुण्य' ।

पुन्यताई—(हि. स्त्री.) पवित्रता ।

पुपली—(हि. स्त्री.) वाँस की पोली नली ।

पुप्पट—(सं. पुं.) तालु का एक रोग ।

पुप्फुस—(सं. पुं.) कमलगट्टे का छत्ता ।

पुसान्—(सं. पुं.) पुरुष, मर्द, नर ।

पुंरंजन—(सं. पुं.) जीव ।

पुंरंजनी—(सं. स्त्री.) बुद्धि ।

पुंरंजय—(सं. पुं.) जनमेजय के पिता का नाम, ऐरावत हाथी के एक पुत्र का नाम ; (वि.) पुर को जीतनेवाला ।

पुंरंदर—(सं. पुं.) इन्द्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, अग्नि ; (वि.) नगर या घर को तोड़नेवाला ; —पुरी—(स्त्री.) इन्द्रपुरी ।

पुंरंध्री—(सं. स्त्री.) कुटुम्बिनी स्त्री ।

पुरः—(हि. अव्य.) आगे, पहिले ; —सर—(वि.) अग्रगण्य, अगुआ, संगी, साथी ; (पुं.) अग्रगमन ।

पुर—(सं. पुं.) नगर, गृह, घर, दुर्ग, गढ़, गुम्गुल, राशि, समूह, एक दैत्य का नाम, चमड़ा, पीली कटसरैया, देह, शरीर कोठरी, अटारी, लोक, नक्षत्र ; (वि.) पूर्ण, भरा हुआ ; (हि. पुं.) चरसा, कुएँ से सिंचाई करने का चमड़े का बड़ा डोल, पुरवट ।

पुरइन—(हि. स्त्री.) कमल का पत्ता, कमल ।

पुरखा—(हि. पुं.) पूर्वज, पूर्व पुरुष, कुल का

वृद्ध पुरुष, बड़ा-बूढ़ा; (मुहा.) पुरखे तर जाना— परलोक में पुरखों की उत्तम गति होना ।

- पुरग—(स. वि.) नगर को जानेवाला ।
 पुरगुर—(हि. पूं.) एक वृक्ष जिसकी लकड़ी के खिलौने बनाये जाते हैं ।
 पुरचक्र—(हि. स्त्री.) चुमकार, पुचकार, प्रोत्साहन, बढ़ावा, प्रेरणा, उसकाना, पृष्ठपोषण, समर्थन ।
 पुरजन—(सं. पूं.) नागरिक ।
 पुरजा—(फा. पूं.) कागज का टुकड़ा, रक्का, यंत्र आदि का कोई सहायक अंग; (मुहा.) पुरजे-पुरजे जड़ना या करना—खंड-खंड करना ।
 पुरजित्—(सं. वि.) त्रिपुरारि, शिव ।
 पुरट—(सं. पूं.) सुवर्ण, सोना ।
 पुरण—(सं. पूं.) समुद्र, सागर ।
 पुरतटी—(सं. स्त्री.) छोटा हाट ।
 पुरत्राण—(सं. पूं.) प्राकार, परकोटा ।
 पुरद्वार—(सं. पूं.) परकोटे का फाटक ।
 पुरद्विष—(सं. पूं.) शिव, महादेव ।
 पुरनियाँ—(हि. वि.) वृद्ध, बूढ़ा ।
 पुरनी—(हि. स्त्री.) अँगूठे में पहिनने का छल्ला, तुरही, बंदूक का गज ।
 पुरपाल—(सं. पूं.) नगरपाल, कोतवाला ।
 पुरबला, पुरबुला—(हि. वि.) पूव का, पहिले का, पूवजन्म-संबंधी ।
 पुरबिया, पुरविहा—(हि. वि.) पूव देश में उत्पन्न, पूव का ।
 पुरभिद्, पुरमथन—(सं. पूं.) शिव, महादेव ।
 पुरभाग—(सं. पूं.) नगर का मार्ग ।
 पुररक्ष—(सं. पूं.) नगर का रक्षक ।
 पुरला—(सं. स्त्री.) दुर्गा ।
 पुरवइया—(हि. स्त्री.) देखें 'पुरवाई' ।
 पुरवट—(हि. पूं.) खत सींचने के लिये कुएँ से पानी खींचन का चमड़े का बड़ा डोल, मोट. चरसा ।
 पुरवना—(हि. क्रि. अ., स.) पूरा करना या होना, भरना, पुजाना, पर्याप्त होना; (मुहा.) साथ पुरवना—साथ देना ।
 पुरवा—(हि. पूं.) छोटा गाँव, पुरा, पूव दिशा से चलनेवाली हवा, गला फूलने का एक रोग, मिट्टी का कुल्हड़ ।
 पुरवाई—(हि. स्त्री.) पूव दिशा से चलनेवाली हवा ।
 पुरवासी—(सं. वि.) नगर में रहनेवाला ।
 पुरवैया—(हि. पूं.) देखें 'पुरवाई' ।
 पुरशासन—(सं. पूं.) महादेव, शिव ।
 पुरश्चरण—(सं. पूं.) किसी कार्य की सिद्धि के लिये पहिले उपाय सोचकर अनुष्ठान

करना, किसी अभीष्ट कार्य की सिद्धि के निमित्त नियमपूर्वक मन्त्र का जप या स्तोत्रपाठ करना ।

- पुरसा—(हि. पूं.) ऊँचाई या गहराई की एक नाप जो हाथ उठाकर खड़े हुए मनुष्य के बराबर होती है ।
 पुरस्—(सं. अव्य.) सामने, आगे ।
 पुरस्करण—(सं. पूं.) पुरस्कृत होने या करने की क्रिया या भाव ।
 पुरस्कार—(सं. पूं.) आदर, पूजा, प्रधानता, स्वीकार, उपहार, पारितोषिक, सींचने की क्रिया ।
 पुरस्कृत—(सं. वि.) पूजित, स्वीकृत, आगे किया हुआ, जिसको उपहार मिला हो ।
 पुरस्सर—(सं. पूं. वि.) अगुआ, साथी, आगे का, पहिला ।
 पुरहत—(हि. पूं.) वह अन्न, द्रव्य आदि जो मंगल कार्य में पुरोहित या प्रजा को पहिले दिया जाता है, आखत ।
 पुरहन—(सं. पूं.) विष्णु, शिव ।
 पुरहा—(हि. पूं.) वह मनुष्य जो कुएँ पर पुरवट छीनने के लिये नियुक्त रहता है ।
 पुरहत—(हि. पूं.) देखें 'पुरहत' ।
 पुरा—(सं. अव्य.) प्राचीन काल में, पुराने समय में; (वि.) प्राचीन, पुराना; (हि. पूं.) पुरवा, गाँव, वस्ती ।
 पुराकल्प—(सं. पूं.) प्राचीन युग, पहिले का कल्प, प्राचीन काल, एक प्रकार का सिद्धांत जिसके अनुसार प्राचीन प्रथाओं के आधार पर किसी विधि के समर्थन के लिये लोग प्रवृत्त किय जाते हैं ।
 पुराकृत—(सं. वि.) पूव जन्म में किया हुआ, पहिले समय में किया हुआ; (पुं.) पूव जन्म का पाप-पुण्य ।
 पुराग—(सं. वि.) पूवगाभी ।
 पुराचीन—(हि. वि.) देखें 'प्राचीन' ।
 पुराज—(सं. वि.) जो पूव काल में हुआ हो ।
 पुराण—(सं. वि.) प्राचीन पुराना; (पुं.) शिव, महादेव, प्राचीन आख्यान, पुरानी कथा, हिन्दुओं का धर्म-संबंधी प्राचीन ग्रन्थ जिसमें संसार की सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषि-मुनियों और राजाओं की कथाएँ हैं, परंपरागत कथासंग्रह, (पुराण अठारह हैं । इनमें विष्णु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य आदि महापुराणों में सृष्टि-तत्त्व, पुनःसृष्टि और लय, देव और पितरों की वंशावली, मन्वन्तर का अधिकार तथा सूर्य और चन्द्रवंशीय राजाओं का संक्षिप्त वर्णन पाया जाता है । इन

- अठारहों पुराणों के नाम—ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भविष्य, मार्कण्डेय, अग्नि, नारद, भागवत, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, वाराह, स्कन्द, वामन, कर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्माण्ड पुराण हैं ।
 पुराणकिद्—(सं. पूं.) लौहमल, कसीस ।
 पुराणपुरुष—(सं. पूं.) विष्णु ।
 पुराणप्रोक्त—(सं. वि.) जो पुराण में कहा गया हो ।
 पुराणविद् (सं. वि.) पुराणों को जाननेवाला ।
 पुराणांत—(सं. पूं.) पुराण का शेष, यम ।
 पुरातत्त्व—(सं. पूं.) प्राचीन काल-संबंधी अन्वेषण तथा अध्ययन-विषयक विद्या ।
 पुरातन—(सं. पूं.) विष्णु; (वि.) प्राचीन, पुराना ।
 पुरातल—(सं. पूं.) तलातल, सात पातालों के नीचे की भूमि ।
 पुराधिप—(सं. पूं.) नगर का अध्यक्ष ।
 पुरान—(हि. पूं.) देखें 'पुराण'; (वि.) पुराना ।
 पुराना—(हि. वि.) जो बहुत दिनों से चला आता हो, प्राचीन काल का, जिसका अनुभव बहुत दिनों का हो, जीर्ण, जो बहुत दिनों का होने के कारण अच्छी दशा में न हो, परिपक्व, पुरातन; (हि. क्रि. अ., स.) पूरा करना, भरना, अनुसरण करना, पालन करना, इस प्रकार बाँटना कि सब को मिल जाय, अँटाना, पुजवाना, किसी घाव का या गड्ढे को भरना; —खुराँट—(पुं.) वृद्ध अनुभवी मनुष्य; —घाघ—(पुं.) बड़ा धूर्त ।
 पुरारति, पुरारि—(सं. पूं.) शिव, महादेव ।
 पुराल—(हि. पूं.) देखें 'पयाल' ।
 पुरावसु—(सं. पूं.) भीष्म ।
 पुराविद्—(सं. वि.) पुरातत्त्व जाननेवाला ।
 पुरावृत्त—(सं. पूं.) पुराना वृत्तान्त, इतिहास, पुराना चरित्र ।
 पुरि—(सं. स्त्री.) पुरी, नदी, शरीर, राजा, एक प्रकार के संन्यासी ।
 पुरी—(सं. स्त्री.) नगरी, जगन्नाथ पुरी ।
 पुरीतत्—(सं. स्त्री.) अन्न, आँत ।
 पुरीमोह—(सं. पूं.) वदूरा ।
 पुरीष—(सं. पूं.) विष्ठा, मल, गू ।
 पुरीषन—(सं. पूं.) माप, उड़व ।
 पुर—(सं. पूं.) देवलोक एक दैत्य, वह पर्वत जिस पर पुरुवा का जन्म हुआ था, शरीर, पराग ।
 पुरुकुत्सन—(सं. पूं.) एक दैत्य ।
 पुरुक्ष—(सं. वि., पूं.) (वह) जिसके पास बहुत अन्न हो ।
 पुरुख—(हि. पूं.) देखें 'पुरुष' ।

पुरुखा-(हिं. पुं.) देखें 'पुरखा'।
पुरुचेतन-(सं. वि.) अनेक विषयों का जाननेवाला।

पुरुज-(सं.पुं.) पुरु राजा के एक पुत्र का नाम।

पुरुजित्-(सं. पुं.) विष्णु।

पुरदिन-(सं. पुं.) बहु दिन, अनेक दिन।

पुरप्रशस्त-(सं. वि.) जिसकी अनेक प्रकार से स्तुति या प्रशंसा की गई हो।

पुरभुज-(सं. वि.) बहुत खानेवाला।

पुरभूत-(सं. पुं.) पुरुहूत, इन्द्र।

पुरमित्र-(सं. पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

पुररुच-(सं. वि.) बहुत चमकीला।

पुररूप-(सं. वि.) अनेक रूप धारण करनेवाला।

पुरुष-(सं. पुं.) मनुष्य, सांख्य के अनुसार प्राणियों का आत्मिक स्वरूप, विष्णु, शिव, जीव, पूर्वज, पति, मनुष्य की शरीर-स्थिति आत्मा, सूर्य, चेतना, घातु, गुग्गूल, पुष्पाग वृक्ष, पारा, तिलक, व्याकरण में सर्वनाम और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के रूपों का वह भेद जिससे यह निश्चय होता है कि सर्वनाम अथवा क्रियापद अपने लिये अथवा अन्य के लिये प्रयोग किया गया है; यथा-"मै" उत्तम पुरुष, "तुम" मध्यम पुरुष और "वह" प्रथम पुरुष कहलाता है; -कार-(पुं.) पुरुष की कृति, पौरुष, उद्योग; -कुंजर-(पुं.) पुरुषश्रेष्ठ; -केशरी-(पुं.) नरसिंह-रूपी विष्णु; -ग्रह-(पुं.) फलित ज्योतिष के अनुसार मंगल, सूर्य और बृहस्पति; -ता-(स्त्री.) पौरुष, पुरुष का भाव; -त्व-(पुं.) पुरुषता; -नक्षत्र-(पुं.) ज्योतिषशास्त्र के अनुसार हस्त, मूल, श्रवण, पुनर्वसु, मृगशिरा और पुष्य नक्षत्र; -नाग-(पुं.) पुरुष-श्रेष्ठ; -नाथ-(पुं.) नरपाल, सेनापति; -पुंगव-(पुं.) पुरुषश्रेष्ठ; -पुंडरीक-(पुं.) देखें 'पुरुषपुंगव'; -पुर-(पुं.) प्राचीन गन्धार राज्या की राजधानी, इसका वर्तमान नाम पेड़ाविर है; -मुखी-(वि.स्त्री.) पुरुष के समान मुखवाली; -मेघ-(पुं.) अश्वमेघ; -गोमेक-आदि के समान एक यज्ञ जो वेदिककालमें किया जाता था, इसमें नर-बलि दी जाती थी; -रज-(पुं.) पुरुषश्रेष्ठ; -राशि-(स्त्री.) ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सारो मेष, मिथुन; सिंह, तुला, धनु और कुम्भ राशियाँ; -रूप-(पुं.) पुरुषाकार; -सर्व-पुं.) पुरुष

की हत्या करनेवाला; -वत्-(वि.) मनुष्य के समान; -वच-(पुं.) नर-हत्या; -वाह-(पुं.) गरुड़, कुबेर; -यंभ, -व्याघ्र-(पुं.) पुरुषश्रेष्ठ; -व्याधि-(स्त्री.) उपदंश रोग; -शार्दूल-(पुं.) पुरुष श्रेष्ठ; -शीर्ष-(पुं.) पुरुष का मस्तक; -सिंह-(पुं.) पुरुषों में श्रेष्ठ; -सूक्त-(पुं.) ऋग्वेदीय एक सूक्त जो "सहज शीर्षा पुरुषः" से आरंभ होता है, (इसमें सोलह ऋचाएँ हैं) इसका पाठ अभिषेकादि अनेक कार्यों में होता है।

पुरुषांतर-(सं. पुं.) अन्य पुरुष।

पुरुषांतरात्मा-(सं. पुं.) जीवात्मा।

पुरुषात्त-(सं. पुं.) विष्णु, राक्षस।

पुरुषाधम-(सं. पुं.) निकृष्ट नर, अधम मनुष्य।

पुरुषानुक्रम-(सं.पुं.) पुरुखाओं से चली आती हुई परम्परा।

पुरुषापितबंध-(सं. पुं.) विपरीत रति।

पुरुषायुष-(सं. पुं.) पुरुष का आयुकाल।

पुरुषार्थ-(सं. पुं.) जीवन का प्रयोजन जो चार प्रकार का है, यथा-वर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पौरुष, पराक्रम, उद्यम, पुंस्त्व, सामर्थ्य, शक्ति, बल।

पुरुषार्थी-(सं. वि.) पराक्रमी, परिश्रमी, उद्योगी, सामर्थ्यवान्, बली।

पुरुषाशी-(सं. पुं.) नरमक्षक राक्षस।

पुरुषेन्द्र-(सं. पुं.) पुरुषश्रेष्ठ।

पुरुषोत्तम-(सं. पुं.) विष्णु, पुरुषश्रेष्ठ, ईश्वर, कृष्ण जगन्नाथ भगवान् जिनका मन्दिर उड़ीसा में है, नारायण; -मास-(पुं.) मलमास का महीना, अधिक-मास।

पुरुह-(सं. वि.) प्रचुर, पर्याप्त।

पुरुहूत-(सं. पुं.) इन्द्र, इन्द्रिय।

पुरुहूता-(सं.स्त्री.) भगवती की एक मूर्ति।

पुरुहूति-(सं. पुं.) विष्णु।

पुरुहूह-(सं. पुं.) सार्वणि मनु के एक पुत्र का नाम।

पुरुहवा-(सं.पुं.) एक राजा का नाम जो ऋग्वेद के अनुसार इला के पुत्र थे, (इनकी पत्नी का नाम उर्वशी था), पार्वण-श्राद्ध के एक देवता का नाम, एक विश्वदेव।

पुरुवसु-(सं.पुं.) बहुत धन, बड़ी सम्पत्ति।

पुरेश-(हिं. पुं.) हलकी मूठ, परिहता।

पुरैत-(हिं.स्त्री.) देखें 'पुरइत'।

पुरोग-(सं.वि.) अग्रगामी, आगे जानेवाला।

पुरोगत-(सं. वि.) जो पहिले गया हो।

पुरोगति-(सं.पुं.) कुक्कुर, कुत्ता।

पुरोगमं, पुरोगमं, पुरोगमं-(सं.वि.) अग्रगामी, आगे जानेवाला।

पुरोगामी-(सं. वि.) अग्रगामी।

पुरोगुह-(सं. वि.) जिसका अगला भाग भारी हो।

पुरोचन-(सं. पुं.) दुर्योधन के एक मित्र का नाम जिसको उसने पाण्डवों को जतु-गृह में जलाने के लिये नियुक्त किया था।

पुरोजन्मा-(सं. पुं.) बड़ा भाई।

पुरोजव-(सं. वि.) आगे बढ़नेवाला, रक्षा करनेवाला।

पुरोडाश-(सं.पुं.) यज्ञीय द्रव्य, वह वस्तु जो यज्ञ में होम की जाय, जव के आटे की वनी हुई रोटी, यज्ञ में हवन करने के बाद वचा हुआ भाग, एक प्रकार का पीठा, सोम-रस।

पुरोद्भवा-(सं. स्त्री.) महामेदा नामक औषधि।

पुरोद्यान-(सं. पुं.) नगर का वगीचा।

पुरोध-(सं. पुं.) पुरोहित।

पुरोधा-(हिं. स्त्री.) पुरोहिताई; (पुं.) पुरोहित।

पुरोधिका-(सं. स्त्री.) प्यारी स्त्री।

पुरोभाग-(सं. पुं.) अग्रभाग।

पुरोभागी-(सं. वि.) केवल दोषों को देखनेवाला, छिद्रान्वेषी।

पुरोभास्त-(सं. पुं.) पुरवा हवा।

पुरोवर्ती-(सं. वि.) सामने रहनेवाला।

पुरोवात-(सं.पुं.) पूरव से बहनेवाली हवा।

पुरोहित-(सं. पुं.) यजमान के यहाँ यज्ञादि श्रौत कर्म, गृह-कर्म, संस्कार, शान्ति आदि कर्म करानेवाला ब्राह्मण।

पुरोहिताई-(हिं. स्त्री.) पुरोहित का काम।

पुरोहितानी-(हिं.स्त्री.) पुरोहित की स्त्री।

पुरौ-(हिं. पुं.) पुरवट।

पुरौती-(हिं. स्त्री.) देखें 'पुति'।

पुर्जल-(हिं.पुं.) कलावत् लपेटने का यन्त्र।

पुर्जा-(हिं. पुं.) देखें 'पुरजा'।

पुर्तगाल-(पुं.) यूरोप के दक्षिण-पश्चिम कोण में स्थित एक देश।

पुर्तगाली-(हिं. वि.) पुर्तगाल देश-संबंधी; (पुं.) इस देश का रहनेवाला (स्त्री.) यहाँ की भाषा।

पुर्थ-(सं. वि.) दुर्ग के मध्य का।

पुरसा-(हिं. पुं.) देखें 'पुरसा'।

पुलक-(सं. पुं.) रोमाञ्च, प्रेम, हर्ष आदि के उद्वेग से चित्त का प्रफुल्लित होना, एक प्रकार का रत्न, एक प्रकार का मोटा अन्न।

पुलकन-(हिं.क्रि. अ.) रोमांचित होना, रोमांच होना।

पुलकांग-(सं.वि.) पुरोहित-अंग

वाला; (पुं.) वरुण का पाशास्त्र ।
 पुलकाई—(हि. स्त्री.) पुलकित होने का भाव, गद्गद होना ।
 पुलकालि, पुलकावलि—(सं. स्त्री.) हर्ष, प्रेम आदि से प्रफुल्ल रोमांच ।
 पुलकित—(सं. वि.) रोमाञ्चित, हर्ष-युक्त, गद्गद, प्रेम या हर्ष से जिसके रोएँ स्फुरित हो उठे हों ।
 पुलकी—(सं. वि.) रोमाञ्चयुक्त; -कृत—(वि.) हर्ष या प्रेम से रोमांचित ।
 पुलकोद्गम—(सं. पुं.) हर्ष, आनन्द ।
 पुलट—(हि. स्त्री.) देखें 'पलट' ।
 पुलपुला—(हि. वि.) जो छूने में कड़ा न हो, जो इतना कोमल हो कि छूने से पचक जाय ।
 पुलपुलाना—(हि. क्रि. स.) किसी कोमल वस्तु को दवाना, मूँह में लेकर बिना चबाये हुए दबाकर चूसना ।
 पुलपुलाहट—(हि. स्त्री.) पुलपुला होने का भाव ।
 पुलस्त—(हि. पुं.) देखें 'पुलस्त्य' ।
 पुलस्ति—(सं. पुं.) सप्तपियों के अन्तर्गत एक ऋषि, पुलस्त्य मुनि ।
 पुलस्त्य—(सं. पुं.) ब्रह्मा के मानस पुत्र जो सप्तपियों में से एक तथा एक प्रजापति माने जाते हैं, शिव का एक नाम ।
 पुलह—(सं. पुं.) ब्रह्मा के मानस पुत्र जो सप्तपियों में से एक तथा एक प्रजापति भी माने जाते हैं, एक गन्धर्व का नाम, शिव, महादेव ।
 पुलाक—(सं. पुं.) एक निकृष्ट धान्य, उवाला हुआ चावल, मात का माँड़, संक्षेप, शीघ्रता; -कारी—(वि.) क्षिप्रकारी ।
 पुलाव—(हि. पुं.) मांस और चावल को एक साथ पकाकर बना हुआ एक व्यंजन ।
 पुलिंद—(सं. पुं.) भारतवर्ष की एक प्राचीन असभ्य जाति ।
 पुलिंदक—(सं. पुं.) पुलिन्द जाति और उनके रहने का देश ।
 पुलिंदा—(हि. पुं.) लपेटे हुए कपड़े, कागज आदि का छोटा मुट्ठा, गट्ठर, बंडल ।
 पुलिन—(सं. पु.) तट, किनारा, नदी के बीच में पड़ी हुई रेती, एक यक्ष का नाम, धारा के हट जाने से निकली हुई भूमि ।
 पुलिरिक—(सं. पुं.) सर्प, साँप ।
 पुलिस—(अ. स्त्री.) प्रशासनांतर्गत अपराध-निवारक विभाग, इस विभाग का कर्मचारी ।
 पुलिहोरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पकवान ।
 पुलकाम—(सं. वि.) नाना प्रकार की कामना करनेवाला ।

पुलोमही—(सं. स्त्री.) अहिफेन, अफीम ।
 पुलोमजा—(सं. स्त्री.) पुलोम की कन्या, शची, इन्द्राणी ।
 पुलोमजित्, पुलोमभिद्—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 पुलोमा(मन्)—(सं. पुं.) एक दैत्य, इन्द्र का ससुर; (स्त्री.) भृगु की पत्नी, च्यवन ऋषि की माता ।
 पुल्ल—(सं. वि.) विकसित, खिला हुआ ।
 पुल्ला—(हि. पुं.) नाक में पहिनने का एक गहना ।
 पुवा—(हि. पुं.) पुआ, पूआ, मालपुआ ।
 पुवार—(हि. पुं.) देखें 'पयाल', पुआल ।
 पुशतनी—(फा. वि.) वंशपरपरागत ।
 पुषित—(सं. वि.) पोषण किया हुआ, पाला-पोसा हुआ, वधित, बढ़ा हुआ ।
 पुष्कर—(सं. पुं.) हाथी की सूँड़ का अगला भाग, ढोल, मृदंग आदि का मुखड़ा जिस पर चमड़ा मड़ा जाता है, आकाश, तलवार का म्यान, कमल, एक प्रकार का रोग, पुराण में कहे हुए सात द्वीपों में से एक, राजा नल के छोटे भाई का नाम, सारस पक्षी, वाण, तीर, पिजड़ा, नाचने की कला, सूर्य, मद, शिव, कृष्ण के एक पुत्र का नाम, एक दिग्गज का नाम, एक प्रकार का ढोल, ताल, पोखरा, विष्णु, सर्प, करछी की कटोरी, ज्योतिष के अनुसार एक योग, आकाश, अंश, पुष्करमूल, वृद्ध का एक नाम, एक तीर्थ जो अजमेर के पास है ।
 पुष्करक—(सं. पुं.) पुष्करमूल ।
 पुष्करनाभ—(सं. पुं.) पद्मनाम, विष्णु ।
 पुष्करपर्ण—(सं. पुं.) कमल का पत्ता ।
 पुष्करमूल—(सं. पुं.) पुष्कर देश में होनेवाली एक औषधि ।
 पुष्करस्थपति—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 पुष्कराक्ष—(सं. पुं.) विष्णु, श्रीकृष्ण ।
 पुष्करिका—(सं. स्त्री.) शिशन का एक रोग ।
 पुष्करिणी—(सं. स्त्री.) पद्म, कमल, पुष्करमूल, जलाशय, पोखरा ।
 पुष्करी—(सं. पुं.) गज, हाथी ।
 पुष्कल—(सं. पुं.) शिव, महादेव, एक प्रकार का ढोल, एक असुर का नाम, वरुण के एक पुत्र का नाम, अन्न नापने की एक प्राचीन नाप; (वि.) प्रचुर, अधिक, परिपूर्ण, भरा हुआ, उपस्थित, पवित्र, श्रेष्ठ ।
 पुष्कलक—(सं. पुं.) कस्तूरी-मृग ।
 पुष्कलावती—(सं. स्त्री.) गांधार राज्य की प्राचीन राजधानी ।
 पुष्ट—(सं. वि.) पालन-पोषण किया हुआ,

बलवान्, बलिष्ठ, मोटा, दृढ़, पक्का; (पुं.) पुष्टि, विष्णु; -ई—(हि. स्त्री.) बलवीर्य को पुष्ट करनेवाली औषधि; -ता—(स्त्री.) दृढ़ता, पोढ़ाई ।
 पुष्टि—(सं. स्त्री.) पोषण, वृद्धि, सोलह मातृकाओं में से एक, धर्म की एक पत्नी, एक योगिनी का नाम, बलिष्ठता, कथन का समर्थन, दृढ़ता, मजबूती; -कर—(वि.) पुष्ट करनेवाला, बलवीर्यवर्धक; -करी—(स्त्री.) गंगा; -कर्म—(पुं.) पुण्य के लिये काम; -कांत—(पुं.) गणाधिप, गणेश; -का—(स्त्री.) जल की सीप, सुतुही; -काम—(वि.) जो पुष्ट होने की इच्छा करता हो; -कारक—(वि.) देखें 'पुष्टिकर'; -द—(वि.) पुष्टि देनेवाला; -दा—(स्त्री.) वृद्धि नामक औषधि; -मति—(पुं.) अग्नि का एक भेद, सरस्वती; -मार्ग—(पुं.) वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित वैष्णवों का भक्ति-मार्ग; -वर्धन—(वि.) पुष्टि देनेवाला ।
 पुष्प—(सं. पुं.) कुसुम, सुमन, फूल, स्त्रियों के ऋतुकाल का रज, आँख का फली नामक रोग, कुबेर का विमान, पुष्पक, लवंग, मांस, रसवत, एक प्रकार का सुरमा, पुष्करमूल, घोड़ों का एक लक्षण; -क—(पुं.) कुबेर का विमान जिसको रावण ने छीन लिया था और रावण के वध के बाद श्रीरामचन्द्र ने उसको कुबेर को दे दिया था, एक प्रकार का नेत्ररोग, फूली, रसवत, एक पर्वत का नाम, घर बनाने में एक प्रकार का मण्डप, पुष्प, फूल, कंकण, सर्प विशेष, तोता, हीराकसीस; -कर्ण—(वि.) वह जिसके कान पर फूल हो; -काल—(पुं.) स्त्रियों का ऋतु-काल, वसन्त ऋतु; -कीट—(पुं.) मौरा, फूल का कीड़ा; -कृच्छ्र—(पुं.) एक व्रत जिसमें फूलों का वधाथ पीकर महीना भर रहना होता है; -केतन, -केतु—(पुं.) कामदेव; -गंधा—(स्त्री.) सफेद जूही; -गृह—(पुं.) फूलों का घर; -ग्रंथन—(पुं.) माला, गूथना; -चाप—(पुं.) फूल का धनुष, कामदेव; -चामर—(पुं.) केतकी केवड़ा, दौना; -ज—(पुं.) फूल का रस, फूलों से उत्पन्न मधु; -वत—(पुं.) वायु कोण के दिग्गज का नाम, एक विद्यावर का नाम, एक नाग का नाम, विष्णु का एक अनवर; -द—(वि.) फल

देनेवाला; (पुं.) वृक्ष; -दर्शन-(पुं.) स्त्रियों का रजोदर्शन; -दाम-(पुं.) फूलों की माला, एक छन्द जिसके प्रत्येक पाद में सोलह अक्षर होते हैं; -द्रव-(पुं.) फूल का रस; -धनु, -धन्वा-(पुं.) कामदेव; -धर-(पुं.) महादेव, जिव; -धारण-(पुं.) विष्णु; -ध्वज-(पुं.) पुष्पकेतन, कामदेव; -निक्ष-(पुं.) भ्रमर, मौरा; -निर्यास-(पुं.) मकरन्द, फूल का रस; -पत्री-(पुं.) कुसुमशर, कामदेव; -पथ-(पुं.) स्त्रियों के रज निकलने का मार्ग, योनि; -पिंड-(पुं.) अशोक का वृक्ष; -पुट-(पुं.) फूल की पंखड़ियों का कटोरी के आकार का आधार; -पुर-(पुं.) पाटलिपुत्र का एक प्राचीन नाम; -फल-(पुं.) कूष्माण्ड, कुम्हड़ा, कैथ; -वाण-(पुं.) कामदेव, फूलों का वाण; -भद्र-(पुं.) वह मण्डप जिसमें बासठ खंभ हों; -भद्रक-(पुं.) देवताओं का एक उपवन; -भव-(पुं.) मकरन्द, मधु; -भूषित-(वि.) फूलों से सुशोभित; -मंडन-(पुं.) फूलों का अलंकार; -नास-(पुं.) वसन्त ऋतु के दो महीने; -मित्र-(पुं.) एक राजा जिसको स्कन्दगुप्त ने हराया था; देखें पुष्यमित्र, -मृत्यु-(पुं.) एक प्रकार का नरकट; -रज-(पुं.) फूल की धूल, पराग; -रथ-(पुं.) फूलों का रथ; -रस, -रसोद्भव-(पुं.) फूल का मधु; -राग-(पुं.) पुखराज; -रेणु-(पुं.) फूल की धूल, पराग; -रोचन-(पुं.) नागकेसर; -लावी-(स्त्री.) माला बनानेवाली मालिन; -लिक्ष-(पुं.) भ्रमर, मौरा, -लिपि-(स्त्री.) एक प्रकार की प्राचीन लिपि; -लिह्-(पुं.) भ्रमर, मौरा; -वती-(स्त्री.) रजस्वला स्त्री; (वि.स्त्री.) फूली हुई; -वाटिका-(स्त्री.) फूलों का बगीचा, फुलवारी; -वृष्टि-(स्त्री.) फूलों की वर्षा; -वैणी-(स्त्री.) फूलों की चोटी; -शय्या-(स्त्री.) फूलों की सेज; -शर; -शरासन-(पुं.) कामदेव; -शून्य-(वि.) बिना फूल का; (पुं.) गूलर; -समय-(पुं.) वसन्तकाल; -सायक-(पुं.) कन्दर्प, कामदेव; -सार-(पुं.) पुष्प का रस; -सारा-(स्त्री.) तुलसी; -हास-(पुं.) विष्णु, फूलों का खिलना; -हासा-(स्त्री.) रजस्वला स्त्री; -हीन-(वि.)

बिना फूल का, गूलर का वृक्ष; -हीना-(स्त्री.) वन्ध्या, वांझ स्त्री।
 पुष्पांजलि-(सं. पुं.) अंजली भरकर फूल जो किसी देवता पर चढ़ाये जायँ।
 पुष्पांबुज-(सं. पुं.) मकरन्द।
 पुष्पा-(सं. स्त्री.) चम्पा, मालिनी, साँफ।
 पुष्पाकर-(सं. पुं.) वसन्त ऋतु।
 पुष्पाजीव, पुष्पाजीवी-(सं. पुं.) मालाकार, माली।
 पुष्पायुध-(सं. पुं.) कुसुमायुध, कामदेव।
 पुष्पाकं-(सं. पुं.) फूलों का अर्क।
 पुष्पासव-(सं. पुं.) मधु, फूलों से बना हुआ मद्य।
 पुष्पास्त्र-(सं. पुं.) कुसुमायुध, कामदेव।
 पुष्पिका-(सं. स्त्री.) दाँत का मल, किसी ग्रन्थ की समाप्ति के अन्त के वाक्य जो "इति श्री" करके आरंभ होते हैं।
 पुष्पिणी-(सं. स्त्री.) रजस्वला स्त्री।
 पुष्पित-(सं. स्त्री.) कुसुमित, फूला हुआ।
 पुष्पिता-(सं. स्त्री.) रजस्वला स्त्री।
 पुष्पिताघ्रा-(सं. स्त्री.) एक अर्धसमवृत्त जिसके पहिले और तीसरे चरण में बारह तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरह अक्षर होते हैं।
 पुष्पी-(सं. वि. पुं.) फूला हुआ (वृक्ष)।
 पुष्पेषु-(सं. पुं.) कामदेव।
 पुष्पोत्सव-(सं. पुं.) कुसुम-त्रीड़ा, फूलों की सुंदर प्रदर्शनी।
 पुष्पोद्यान-(सं. पुं.) पुष्पवाटिका, फुलवारी।
 पुष्य-(सं. पुं.) सत्ताईस नक्षत्रों में से आठवाँ नक्षत्र; (इसकी आकृति वाण के सदृश है), पुष्टि, षोषण, फूल का सार, पूस का महीना, मूल या सार वस्तु; -नेत्रा-(स्त्री.) वह रात्रि जिसम रातभर पुष्य नक्षत्र हो; -मित्र-(पुं.) एक प्रतापी राजा जिसने मौर्यों के बाद मगध देश में शुंग वंश का राज्य स्थापित किया था; -लक-(पुं.) कस्तूरी-मृग; -स्तान-(पुं.) पूस के महीने में उस समय का स्नान जब चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता हो।
 पुष्या-(सं. स्त्री.) पुष्य नक्षत्र।
 पुष्याकं-(सं. पुं.) ज्योतिष का एक योग जो कर्क की संक्रान्ति में सूर्य के पुष्य नक्षत्र में रहने पर होता है।
 पुस-(हि. पु.) विल्ली को पुकारने का प्यार का शब्द।
 पुसाना-(हि. क्रि. अ.) उचित जान पड़ना, शोभा देना, अच्छा लगना, वन पड़ना, पूरा पड़ना।

पुस्त-(सं. पुं.) शिल्पकर्म।
 पुस्तक-(सं. स्त्री.) पोथी, किताब।
 पुस्तकमुद्रा-(सं. स्त्री.) एक तान्त्रिक मुद्रा।
 पुस्तकाकार-(सं. वि.) पुस्तक के आकार का, पोथी के रूप का।
 पुस्तकागार-(सं. पुं.) जिस भवन में पुस्तकों का संग्रह हो, पुस्तकालय।
 पुस्तकालय-(सं. पुं.) पुस्तकागार, जिस भवन में पुस्तकों का संग्रह हो।
 पुस्तिका-(सं. स्त्री.) छोटे आकार की पुस्तक या पोथी।
 पुहकर-(हि. पुं.) देखें 'पुष्कर'; -मूल-(पुं.) पुष्करमूल।
 पुहमी-(हि. स्त्री.) पृथ्वी, भूमि।
 पुहाना-(हि. क्रि. सं.) गुंथवाना, पिरोने का काम दूसरे से कराना।
 पुहुप-(हि. पुं.) देखें 'पुष्प', फूल।
 पुहुप-राग-(सं. पुं.) पुष्पराग।
 पुहुपरेणु-(हि. पुं.) पुष्परेणु, पराग।
 पुहुमी-(हि. स्त्री.) पृथ्वी, भूमि।
 पूंगा-(हि. स्त्री.) सीप का कीड़ा, सँपेरे का वाजा, महुवर।
 पूंछ-(हि. स्त्री.) पशु, पक्षी, कीड़े आदि के शरीर का सब से पिछला भाग, लांगुल, पोंछ, किसी वस्तु का पीछे का भाग, पुछल्ला, पीछे लगा रहनेवाला, पिछलग्गू।
 पूंछड़ी-(हि. स्त्री.) लांगुल, पुच्छ, पोंछ।
 पूंछताछ-(हि. स्त्री.) देखें 'पूछताछ'।
 पूंछना-(हि. क्रि. सं.) देखें 'पूछना'।
 पूंछलतारा-(हि. पुं.) देखें 'केतु'।
 पूंजी-(हि. स्त्री.) मूल धन, वह द्रव्य या धन जिससे कोई व्यापार आरंभ किया जाय, किसी कारखाने की अचल सम्पत्ति, हथपा-पैसा, धन, किसी विषय में सामर्थ्य, समूह, पूंज, ढेर; -दार, -पति-(पुं.) वह जो किसी व्यवसाय में धन या पूंजी लगता है; -वाद-(पुं.) समाज में पूंजीपतियों द्वारा उत्पादन के साधनों पर अधिकार करने की व्यवस्था।
 पूंठ-(हि. स्त्री.) देखें 'पीठ'।
 पूआ-(हि. पुं.) मालपूआ, एक प्रकार की पूरी जो आटे को गुड़ व चीनी के रस में गुंथकर घी में छायी जाती है।
 पूग-(सं. पुं.) सुपारी का वृक्ष या फल, कटहल, शहतूत का वृक्ष, ढेर, समूह, मंघ, स्वभाव; -कृत-(वि.) इकट्ठा किया हुआ; -पात्र-(पुं.) पीकदान; -पीठ-(पुं.) उगालदान; -फल-(पुं.) सुपारी, उसका पेड़।
 पुगना-(हि. क्रि. अ.) पूरा होना, पुगना।

पूगी—(सं. स्त्री.) सुपारी;—फल—(पुं.) गुवाक, सुपारी।
 पूछ—(हि. स्त्री.) पूछने की क्रिया या भाव, जिज्ञासा, आदर, खोज, चाह।
 पूछताछ—(हि. स्त्री.) अनुसन्धान, जिज्ञासा, जाँच-पड़ताल।
 पूछना—(हि. क्रि. स.) किसी बात को जानने के लिये प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, पता लगाना, किसी बात की सत्यता जानने की चेष्टा करना, आदर करना, ध्यान देना, टोकना; (मुहा.) बात न पूछना—तुच्छ समझकर ध्यान न देना।
 पूछपाछ—(हि. स्त्री.) देखें 'पूछताछ'।
 पूछरी—(हि. स्त्री.) पोंछ, पीछे का भाग।
 पूछाताछी, पूछापाछी—(हि. स्त्री.) पूछने की क्रिया या भाव।
 पूजक—(हि. पुं., वि.) पूजा करनेवाला।
 पूजन—(हि. पुं.) पूजा, अर्चना, देवता की वन्दना, आदर, सम्मान, आराधना।
 पूजना—(हि. क्रि. अ., स.) गहराई का भरना या बराबर होना, पूरा होना, समाप्त होना, बीतना, ऋण आदि का चुकता होना, श्रद्धा-भक्ति से किसी की सेवा करना, किसी देवता की आराधना करना, सम्मान करना, आदर करना, घूस देना।
 पूजनी—(सं. स्त्री.) मादा चटकवा गौरैया।
 पूजनीय—(सं. वि.) आराध्य, पूजा करने योग्य, आदरणीय, अर्चनीय।
 पूजमान—(हि. वि.) पूजनीय, पूज्य।
 पूजा—(सं. स्त्री.) पूजन, अर्चन, आराधना, ईश्वर या देवी-देवता के प्रति श्रद्धा, विनय, सम्मान और समर्पण का भाव प्रगट करने का कार्य, किसी को प्रसन्न करने के लिये घूस आदि देना, आदर-सत्कार, वह धार्मिक कृत्य जो जल, फल-फूल, अक्षत, नैवेद्य आदि देवता पर चढ़ाकर किया जाता है, ताड़ना, दण्ड।
 पूजार्ह—(सं. वि.) मान्य, पूजने योग्य।
 पूजित—(सं. वि.) अर्चित, जिसकी पूजा की गई हो।
 पूजिव्य—(सं. वि.) पूजा करने योग्य।
 पूजेता—(हि. पुं.) पुजारी।
 पूज्य—(सं. वि.) पूजनीय, माननीय, आदर के योग्य, पूजा के योग्य।
 पूज्यता—(सं. स्त्री.) पूजा-योग्य होने का भाव।
 पूज्यपाद—(सं. वि.) जिसके पैर पूजनीय हों, अत्यन्त पूज्य या मान्य।
 पूज्यमान—(सं. वि.) जो पूजा जाता हो।
 पूठा—(हि. पुं.) देखें 'पुट्टा'।

पूठि—(हि. स्त्री.) देखें 'पीठ', पूठ।
 पूड़ा—(हि. पुं.) देखें 'पूआ'।
 पूड़ी—(हि. स्त्री.) देखें 'पूरी', मूदंग या तवले पर मढ़ा हुआ गोल चमड़ा।
 पूण—(हि. स्त्री.) पूर्णिमा, पुनर्वासी।
 पूत—(सं. वि.) शुद्ध किया हुआ, पवित्र, सत्य, सच्चा; (पुं.) शंख, सफेद कुश, पलाश, तिल का पौधा, भूसी निकाला हुआ अन्न, जलाशय; (हि. पुं.) पुत्र, बेटा, चूल्हे के दोनों ओर तथा पीछे का उभड़ा हुआ भाग।
 पूतड़ा—(हि. पुं.) छोटे बच्चों के नीचे मलमूत्र त्याग करने के लिये बिछाया जानेवाला छोटा बिछौना।
 पूतदार—(सं. पुं.) पलाश, ढाक।
 पूतद्रु—(सं. पुं.) खदिर, खैर का वृक्ष।
 पूतधान्य—(सं. पुं.) तिल।
 पूतन—(सं. पुं.) गुदा का एक रोग।
 पूतना—(सं. स्त्री.) हरीतकी, हरें, जटामासी, एक दानवी जिसको कंस ने वालक श्रीकृष्ण को मारने के लिये भेजा था, पर जिसको श्रीकृष्ण ने मार डाला था, एक बाल-ग्रह या बाल-रोग।
 पूतनारि—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण।
 पूतनिका—(सं. स्त्री.) कार्तिकेय की एक मातृका का नाम, पूतना राक्षसी।
 पूतनी—(सं. स्त्री.) पुदीना।
 पूतपत्री—(सं. स्त्री.) तुलसी का पौधा।
 पूतफल—(सं. पुं.) पनस, कटहल।
 पूतमति—(सं. वि.) पवित्र-बुद्धि, पवित्र अन्तःकरणवाला; (पुं.) शिव, महादेव।
 पूतरा—(हि. पुं.) देखें 'पुतला', बालबच्चा।
 पूतरी—(हि. स्त्री.) देखें 'पुतली'।
 पूता—(सं. वि. स्त्री.) पवित्र, शुद्ध; (स्त्री.) दूब।
 पूतात्मा—(सं. वि.) शुद्ध अन्तःकरणवाला; (पुं.) विष्णु।
 पूति—(सं. पुं.) रोहिश तृण; (स्त्री.) पवित्रता, दुर्गन्ध; (वि.) दुर्गन्धयुक्त;—क—(पुं.) विष्ठा;—कन्या—(स्त्री.) पूतिका, पुदीना;—कण—(पुं.) कान का एक रोग जिसमें कान से पीव निकलती और दुर्गन्ध आती है;—का—(स्त्री.) एक प्रकार की मधुमक्खी, पोई का साग;—०कामुख—(पुं.) शंबूक, घोंघा;—काष्ठ—(पुं.) देवदारु, देवदार;—केसर—(पुं.) नागकेसर;—गंध—(पुं.) एक प्रकार की सुगन्धित घास, दुर्गन्ध;—गंधा—(स्त्री.) बकुची;—तला—(स्त्री.) मालकंगनी;—दला—(स्त्री.) तेजपत्र, तेजपात;—नस्य—(पुं.) नाक

का एक रोग;—पत्र—(पुं.) सोनापाठा, पीला लोध;—मांस—(पुं.) सड़ा हुआ मांस;—मास्त—(पुं.) छोटा बेर, बेल का वृक्ष;—मूषिका—(स्त्री.) छल्लंदर।
 पूती—(हि. स्त्री.) लहसुन की गाँठ।
 पूतीक—(सं. पुं.) गंधमाज्जार।
 पूथ, पूथा—(हि. पुं.) बालू का ऊँचा टीला।
 पून—(सं. वि.) नष्ट; (हि. पुं.) जंगली बादाम का वृक्ष; (वि.) पूर्ण।
 पूनना—(हि. पुं.) एक प्रकार की ऊख।
 पूनव—(हि. स्त्री.) देखें 'पूर्णमा', पूनो।
 पूनसलाई—(हि. स्त्री.) पूनी बनाने की सलाई।
 पूनाक—(हि. स्त्री.) तेलहन की पेरी हुई खली।
 पूनिउं—(हि. स्त्री.) देखें 'पूनो', पूर्णिमा।
 पूनी—(सं. स्त्री.) पवित्रता, शुद्धि; (हि. स्त्री.) धुनी हुई रूई की बड़ी बत्ती जो सूत कातने के लिये बनाई जाती है।
 पूनो—(हि. स्त्री.) पूर्णमासी, पूर्णिमा।
 पूप—(सं. पुं.) पूआ, मालपुआ।
 पूपला—(सं. स्त्री.) पूआ-जैसा एक प्रकार का पकवान।
 पूपली—(सं. स्त्री.) बाँस आदि की पोली नली, बच्चों के खेलने का एक प्रकार का खिलौना।
 पूपालो—(सं. स्त्री.) पूआ, मालपुआ।
 पूय—(सं. पुं.) मवाद, पीव;—कुंड—(पुं.) एक नरक का नाम;—रक्त—(पुं.) नाक का एक रोग।
 पूयारि—(सं. पुं.) नीम का वृक्ष।
 पूयोद—(सं. पुं.) एक नरक का नाम।
 पूर—(सं. पुं.) जलराशि, वाढ़, मसाले आदि जो पकवान के भीतर भरे जाते हैं, प्राणायाम में साँस खींचने की क्रिया; (हि. वि.) देखें 'पूर्ण'।
 पूरक—(सं. पुं.) वह अंक जिसमें किसी संख्या का गुणा किया जाय, प्राणायाम की वह क्रिया जिसमें नाक के एक छिद्र को बन्द करके दूसरे छिद्र से साँस ऊपर को खींची जाती है, अशौच काल में मृत व्यक्ति के प्रेत के निमित्त दिया जानेवाला पिण्ड; (वि.) पूरा करनेवाला।
 पूरण—(सं. पुं.) पूरक पिण्ड, वृष्टि, अंकों का गुणा करना, कान में तेल डालना, सेतु, पुल, नागरमोथा, समुद्र, वात के प्रकोप से होनेवाला एक व्रण, परिपूर्ण करने की क्रिया।
 पूरणी—(सं. वि. स्त्री.) पूरा करनेवाली; (स्त्री.) सेमल का वृक्ष।
 पूरणीय—(सं. वि.) पूरा करने योग्य।

पूरन-(हि. वि.) देखें 'पूर्ण'; -**काम-**(वि.) देखें 'पूर्णकाम'; -**पूरी-**(स्त्री.) एक प्रकार की पूरनवाली कचौड़ी; -**मासी-**(स्त्री.) देखें 'पूर्णमासी' ।
रना-(हि. क्रि.अ.,स.) पूरित करना, टोटा पूराकरना, मनोरथ सिद्ध करना, मंगल अवसरों पर भूमि पर अबीर, आटे आदि से चौखूँटे क्षेत्र बनाना, चौक बनाना, बटना, पूर्ण या व्याप्त होना, वजाना, फूंकना, छाना ।
पूर्व-(हि. पुं.) वह दिशा जिसमें सूर्य का उदय होता है, पूर्व दिशा ।
पूर्वज-(हि. पुं.) प्राचीन समय, इस जन्म से पहिले का जन्म, पूर्वजन्म ।
पूर्वजन्म-(हि. वि.) प्राचीन काल का, पुरातन, पुराना, पहिले जन्म का ।
पूर्वव्याप, पूर्वव्या-(हि. वि.) पूर्व-संबंधी, पूर्व का; (स्त्री.) पूर्वी नाम की रागिनी ।
पूरयितव्य-(सं. वि.) पूरा करने योग्य ।
पूरा-(हि. वि.) परिपूर्ण, भरा हुआ, समस्त, समुच्चा, बिना खंड किया हुआ, जिसमें कोई कमी न हो, यथेष्ट, भरपूर, सम्पन्न; (मुहा.) बात का पूरा-अपने वचन पर दृढ़ रहनेवाला; काम पूरा उतरना-काम का पूरी तरह से संपन्न होना; बात पूरी उतरना-कही हुई बात सच्ची ठहरना; दिन पूरे करना-किसी न किसी प्रकार से दिन बिताना; दिन पूरे होना-मृत्युकाल समीप आना ।
पूरिका-(सं. स्त्री.) पूरी, बरा ।
पूरित-(सं. वि.) परिपूर्ण, भरा हुआ, पूरा किया हुआ, गुणा किया हुआ, तृप्त, सन्तुष्ट ।
पूरिया-(हि. पुं.) षाड़व जाति का एक राग; -**कल्याण-**(पुं.) संपूर्ण जाति का एक संकर राग ।
पूरी-(हि. स्त्री.) एक खाद्य पदार्थ जो आटे को साधारण रोटी की तरह बेलकर घी में छान लिया जाता है, वह गोल चमड़ा जो ढोल, मृदंग आदि के मुख पर मढ़ा रहता है ।
पूरुजित्-(सं. पुं.) विष्णु ।
पूरुष-(सं. पुं.) पुरुष, नर, चेतन, आत्मा ।
पूर्ण-(सं. वि.) परिपूर्ण, भरा हुआ, जिसको किसी प्रकार की इच्छा न हो, अखण्डित, समुच्चा, समग्र, परितृप्त, यथेष्ट, समाप्त, सफल, सिद्ध; (पुं.) एक गन्धर्व का नाम, जल, परमेश्वर, विष्णु, संगीत या ताल में वह स्थान जो 'सम अतीत' की एक मात्रा के बाद आता है; -**रत्न-**(पुं.) भरा हुआ घड़ा; -**क-**(पुं.) देवताओं की एक

द्योनि, ताम्रचूड़, मुर्गा; -**काम-**(पुं.) परमेश्वर; (वि.) निष्काम, जिसकी सब कामनाएँ पूरी हो चुकी हों; -**कुम्भ-**(पुं.) जल से भरा हुआ घड़ा; -**कुट-**(पुं.) एक प्रकार का पक्षी; -**कोषा-**(स्त्री.) कचौरी नाम का पकवान; -**गर्भा-**(स्त्री.) वह स्त्री जिसको शीघ्र ही प्रसव होनेवाला हो; -**चंद्र-**(पुं.) पूर्णिमा का चन्द्रमा; -**तः-**, -**तया-**(अव्य.) पूर्ण रूप से, पूरी तरह से; -**ता-**(स्त्री.) -**त्व-**(पुं.) पूर्ण होने का भाव; -**परिवर्तक-**(पुं.) वह जीव जो अपने जीवन में अनेक बार अपना रूप बदलता है; -**पात्र-**(पुं.) वस्तुपूर्ण पात्र, होम के अन्त में पुरोहित को देय दक्षिणा आदि, जलपूर्ण पात्र; -**प्रज्ञ-**(वि.) पूर्ण ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान्, पूर्णप्रज्ञ दर्शन के प्रणेता मध्वाचार्य; -**दर्शन-**(पुं.) वेदान्त सूत्र तथा इस पर मध्वाचार्यकृत भाष्य का अवलम्बन करके बनाया हुआ दर्शनशास्त्र; -**बीज-**(पुं.) बीजपुर, विजौरी नदी; -**भद्र-**(पुं.) एक नाग का नाम; -**मा-**(स्त्री.) देखें 'पूर्णमा'; -**मासी-**(स्त्री.) चान्द्रमास की अन्तिम तिथि, शुक्लपक्ष का अन्तिम या पंद्रहवाँ दिन; -**विराम-**(पुं.) लिखने में वह चिह्न जो वाक्य के अंत में लगाया जाता है, (नागरी, बँगला आदि में इसके लिये एक खड़ी पाई '।' का प्रयोग किया जाता है); -**विषम-**(पुं.) संगीत के ताल में वह स्थान जो कभी-कभी सम का काम देता है; -**होम-**(पुं.) हवन के अन्त की पूर्णाहुति ।
पूर्णाजलि-(सं. वि.) जितना परिमाण एक अंजलि में समा सके ।
पूर्णा-(सं. स्त्री.) ज्योतिष के अनुसार पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावास्या तिथियाँ ।
पूर्णाघात-(सं. पुं.) संगीत का एक ताल ।
पूर्णांद-(सं. पुं.) परमेश्वर, परब्रह्म ।
पूर्णांमृता-(सं. स्त्री.) चन्द्रमा की सोलहवीं कला ।
पूर्णायु-(सं. पुं.) सौ वर्ष का जीवन-काल; (वि.) पूरे आयुष्यवाला ।
पूर्णावतार-(सं. पुं.) परमात्मा या ईश्वर का सोलहों कलाओं से युक्त अवतार ।
पूर्णाहुति-(सं. स्त्री.) होम की समाप्ति पर दी जानेवाली अन्तिम आहुति ।
पूर्णिका-(सं. स्त्री.) दोहरी चोंच का एक पक्षी ।
पूर्णमा-(सं. स्त्री.) पूर्णमासी, पूरनमासी ।
पूर्णदु-(सं. पुं.) पूर्णिमा का चन्द्रमा, पूर्णचन्द्र ।

पूर्णोत्सर्ग-(सं. वि.) जिसकी गोद भरी हो ।
पूर्णोपमा-(सं. स्त्री.) उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें उसके चारों अंग अर्थात् उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म-पूर्ण रूप से व्यक्त हों ।
पूरत-(सं. पुं.) पालन, खोदने या बनाने का काम; (वि.) पूरित, आच्छादित, ढपा हुआ ।
पूरति-(सं. स्त्री.) पूरण करने का काम, गुणन, गुणा करने का काम, बावली, कूप, तालाब आदि का उत्सर्ग, पूर्णता, किसी आरंभ किये हुए काम की समाप्ति, किसी काम में जितनी वस्तुएँ आवश्यक हों उनको पूरा करने का काम; -**काम-**(वि.) धन आदि से अपनी कामना पूरी करनेवाला; -**विभाग-**(पुं.) वह सरकारी विभाग जो राष्ट्रीय खाद्य-सामग्रियों की पूरति करता है ।
पूर्ती-(सं. वि.) पूरा करनेवाला, जनकल्याण के कार्य करनेवाला ।
पूर्भिद्य-(सं. पुं.) संग्राम, युद्ध ।
पूर्य-(सं. वि.) पालन करने योग्य, पूरा करने योग्य ।
पूर्व-(सं. वि.) प्रथम, आदि, पहिले का, आगे का, बड़ा, प्राचीन, पुराना, पिछला; (पुं.) वह दिशा जिसमें सूर्य का उदय होता है; (अव्य.) पहले; -**क-**(पुं.) पूर्वज, बाप-दादा; (अव्य.) साथ, सहित, (इस अर्थ में यह संज्ञा के अन्त में जुड़कर प्रयुक्त होता है, यथा-व्यानपूर्वक); -**कर्म-**(पुं.) पहले किया जानेवाला कार्य; -**कल्प-**(पुं.) पूर्वकाल, प्राचीन समय; -**काय-**(पुं.) शरीर में नाभि के ऊपर का भाग; -**काल-**(पुं.) प्राचीन काल; -**कालिक-**(वि.) पूर्वकाल-संबंधी, जिसकी रीति पूर्वकाल में रही हो, जिसका जन्म पूर्वकाल में हुआ हो; -**कालिक त्रिया-**(स्त्री.) वह अपूर्ण क्रिया जिसका काल किसी दूसरी पूर्ण क्रिया के पहले का हो; -**काष्ठा-**(स्त्री.) पूर्व दिशा; -**कृत-**(पुं.) पूर्व दिशा के अधिपति, सूर्य; -**कृत-**(वि.) पूर्वकाल में किया हुआ; -**गंगा-**(स्त्री.) नर्मदा नदी; -**ग-**(वि.) पूर्व या पहले का; -**ज-**(पुं.) पूर्वपुरुष, पुरखा चन्द्रलोक में रहनेवाले पितर-गण; (वि.) पूर्व-काल में उत्पन्न; -**जन-**(पुं.) पुराने समय के लोग; -**जन्म-**(पुं.) पहिले का जन्म, पिछला जन्म; -**जन्मा-**(पुं.) अग्रज, बड़ा भाई;

-जा-(स्त्री.) बड़ी बहन; -जाति-(स्त्री.) पूर्वजन्म, पिछला जन्म; -ज्ञान-(पुं.) पहिले का ज्ञान, पूर्व-जन्म का ज्ञान; -तः-(अव्य.) पहले से; -तन-(वि.) पुराने समय का; -त्व-(पुं.) पूर्व का भाव, पुरानापन; -दक्षिणा-(स्त्री.) अग्निकोण, पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना; -दिन-(पुं.) आज से पहिले का दिन; -देह-(पुं.) पूर्व-जन्म का शरीर; -निरूपण-(पुं.) भाग्य; -पक्ष-(पुं.) कृष्ण-पक्ष, शास्त्रार्थ में संशय मिटाने के लिये जो प्रश्न किया जाता है, फक्कड़ा, अभियोग में वादी का दावा या अधिकार; -पक्षी-(वि.) पूर्वपक्ष उपस्थित करनेवाला; (पुं.) वह जो किसी प्रकार का अभियोग उपस्थित करे; -पक्षीय-(वि.) पूर्वपक्ष-संबंधी; -पद-(पुं.) पूर्ववर्ती स्थान; -पितामह-(पुं.) प्रपितामह, परदादा; -पुष्प-(पुं.) बाप-दादा, परदादा आदि पुरख, ब्रह्मा; -प्रज्ञा-(स्त्री.) पूर्वज्ञान, पूर्वस्मृति; -फाल्गुनी-(स्त्री.) अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों में से ग्यारहवाँ नक्षत्र जिसका दो तारकायुक्त आकार चारपाई की तरह है; -०भव-(पुं.) बृहस्पति; -भाग-(पुं.) प्रथम भाग, ऊर्ध्व भाग; -भाद्रपद-(पुं.) अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों में से पचीसवाँ नक्षत्र, (इसका आकार घण्टे की तरह का तथा दो नक्षत्रयुक्त है); -भाषी-(वि.) पहिले बोलनेवाला; -भूत-(वि.) जो पहिले बीत गया हो; -मीमांसा-(स्त्री.) जैमिनि ऋषिकृत एक दर्शन-शास्त्र जिसमें कमकाण्ड-सम्बन्धी विषयों का वर्णन है; -रंग-(पुं.) नाटक आरम्भ करने के पहिले विघ्न-शान्ति अथवा दर्शकों को सावधान करने के लिये जो वंदना या स्तुति गाई जाती है; -राग-(पुं.) पूर्वानुराग, प्रथम अनुराग, साहित्य में नायक और नायिका की वह प्रेम-भावना जो दोनों के परस्पर संयोग होने से पहले होती है; -रात्र-(पुं.) रात्रिका पूर्व भाग; -रूप-(पुं.) पहिले का रूप, किसी वस्तु का वह रंग-रंग जिसमें वह पहिले रही हो, पूर्वलक्षण, आगमसूचक चिह्न जो किसीके उपस्थित होने से पहिले प्रकट हो, आसार; -लक्षण-(पुं.) पौरा, आगमसूचक लक्षण; -वत्-(अव्य.)

पूर्वतुल्य, पहले की तरह, कारण देखकर किसी कार्य का अनुमान; -वयस्-(पुं.) कम उम्र का; -वर्ती-(वि.) पहिले का, जो पहिले हो चुका हो; -वाद-(पुं.) पहिला अभियोग; -वादी-(पुं.) जो न्यायालय में जाकर पहिले अभियोग उपस्थित करे; -वायु-(पुं.) पुरवइया हवा; -वर्षिक-(वि.) वर्षाकाल के पहिले का; -विद्-(वि.) पुरानी बातों को जाननेवाला; -वृत्त-(पुं.) प्राचीन घटना, इतिहास; -वैरी-(पुं.) पहिले का शत्रु; -शरद-(वि.) शरदऋतु के पहिले का; -शैल-(पुं.) उदयाचल; -सर-(वि.) अग्रगामी, आगे चलनेवाला।

पूर्वा-(सं. स्त्री.) पूर्व दिशा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र।
पूर्वाग्नि-(सं. पुं.) आवसथ्य अग्नि।
पूर्वाचल-(सं. पुं.) उदयाचल।
पूर्वानिल-(सं. पुं.) पूर्व से बहनवाली वायु।
पूर्वानुराग-(सं. पुं.) अनुराग या प्रेम का आरम्भ, किसी के गुण सुनकर अथवा उसका चित्र या रूप देखकर उत्पन्न होनेवाला प्रेम, साहित्य में पूर्वानुराग तब तक माना जाता है जब तक प्रेमी और प्रेमिका का मिलाप न हो, (मिलन के उपरान्त उसको प्रेम या प्रीति कहते हैं।)
पूर्वापर-(सं. वि.) अगला और पिछला, क्रमानुसार, पूर्व और पश्चिम का।
पूर्वापर्य-(सं. पुं.) पूर्वापर का भाव।
पूर्वाफाल्गुनी-(सं. स्त्री.) अश्विनी आदि २७ नक्षत्रों में से ग्यारहवाँ नक्षत्र, (इसका आकार परलंग की तरह का माना जाता है, इसमें दो तारे हैं।)
पूर्वाभाद्रपद-(सं. पुं.) अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों में पचीसवाँ नक्षत्र।
पूर्वाभिभाषी-(सं. वि.) पहिले बोलनेवाला।
पूर्वाभिमुख-(सं. वि.) पूर्व की ओर मुख किया हुआ।
पूर्वोजित-(सं. वि.) पहिले का उपाजित या कमाया हुआ।
पूर्वर्च-(सं. वि.) किसी पुस्तक का आदि का आधा भाग।
पूर्वाशी-(सं. वि.) पहिले भोजन करनेवाला।
पूर्वाषाढा-(सं. स्त्री.) अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों में से बीसवाँ नक्षत्र जिसका आकार सूर्य की तरह का माना जाता है, (इसमें चार तारे हैं। यह नक्षत्र अधोमुख है और इसका अधिष्ठाता देवता वरुण है।)

पूर्वाह्न-(सं. पुं.) दिनमान का प्रथम भाग, प्रातःकाल से दोपहर तक का समय।
पूर्वी-(हिं. वि.) पूर्व दिशा से-संबंध रखनेवाला, पूर्व का; (पुं.) एक प्रकार का चावल जो पूर्व में होता है, विहार प्रान्त में गाया जानेवाला एक प्रकार का लोक-गीत।
पूर्वी घाट-(हिं. पुं.) दक्षिणी भारत के पूर्वी किनारे पर स्थित पर्वतों की श्रेणी।
पूर्वतर-(सं. वि.) पूर्व से मित्र, पश्चिमी।
पूर्वद्युः-(सं. पुं.) प्रातःकाल, सवेरा; (अव्य.) पिछले दिन, पूर्व दिन।
पूर्वोदित-(सं. वि.) पूर्वकथित, पहले कहा हुआ।
पूर्वोत्तर-(सं. स्त्री.) पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान-कोण।
पूर्वोत्पन्न-(सं. वि.) पूर्वकाल में उत्पन्न, जो पहले पैदा हुआ हो।
पूर्वक-(सं. पुं.) घास का पुंज या ढेर, भूज आदि का बंधा हुआ गट्टा।
पूर्वा-(हिं. पुं.) भूज आदि का बंधा हुआ गट्टा।
पूर्विका-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का पूआ।
पूर्वी-(हिं. स्त्री.) छोटा पूआ।
पूर्वा-(हिं. पुं.) देखें 'पूर्वा'।
पूर्व-(सं. हिं. पुं.) शहदूत का वृक्ष, पीप मास।
पूर्वक-(सं. पुं.) शहदूत का पंड़।
पूर्वण-(सं. पुं.) सूर्य पुराण के अनुसार वारह आदित्यों में से एक, पार्थिव आदित्यों में से एक, पार्थिव पदार्थ, मिट्टी की बनी हुई वस्तु।
पूर्वणा-(सं. स्त्री.) कार्तिकेय की एक मातृका का नाम।
पूर्वा-(सं. स्त्री.) पृथ्वी, दाहिने कान की एक नाड़ी का नाम; (पुं.) देखें 'पूर्वण', सूर्य; -सुहृद्-(पुं.) शिव, महादेव।
पूर्व-(हिं. पुं.) पीप मास, अगहन के बाद तथा माघ के पहिले का महीना।
पूर्वका-(सं. स्त्री.) असवर्ग नामक एक गन्धद्रव्य।
पूर्व्य-(सं. पुं.) घन, सम्पत्ति।
पूर्व-(सं. पुं.) अन्न, अनाज।
पूर्वक-(सं. वि., पुं.) जिज्ञासु, जानने की इच्छा करनेवाला, प्रश्न करनेवाला, पूछनेवाला।
पूर्वचना-(सं. स्त्री.) जिज्ञासा, पूछना।
पूर्वचा-(सं. स्त्री.) प्रश्न, सवाल।
पूर्वना-(सं. स्त्री.) सेना, संग्राम, लड़ाई, प्राचीन सेना-विभाग जिसमें २४३ हाथी, २४३ ख, ७२९ घुड़सवार और

१२१५ पैदल सिपाही रहते थे; -पति-
(पुं.) सेनापति ।
पृत्-(सं. स्त्री.) सेना, युद्ध, संग्राम ।
पृथक्-(सं. अव्य.) मित्त, अलग, जुदा;
-करण-(पुं.) अलग करने का भाव,
अलगाव; -क्षेत्र-(पुं.) एक ही पिता
परन्तु मित्त माता से उत्पन्न सन्तान;
-छद-(पुं.) अखरोट का वृक्ष; -त्ता-
(स्त्री.) अलगाव; -त्व-(पुं.) अलग
होने का भाव; -पर्णी-(स्त्री.) पिठवन
नामक औषधि ।
पृथगात्मता-(सं. स्त्री.) विरक्ति, विराग,
अन्तर, भेद ।
पृथग्जन-(सं. पुं.) नीच या पापी पुरुष ।
पृथग्वीज-(सं. पुं.) भल्लातक, मिलावाँ ।
पृथग्भाव-(सं. पुं.) देखें 'पृथक्त्व' ।
पृथग्विध-(सं. वि. अव्य.) नाना रूप का
(से) ।
पृथवान्-(सं. पुं.) पृथ्वी, भूमि ।
पृथ्वी-(सं. स्त्री.) देखें 'पृथिवी' ।
पृथा-(सं. स्त्री.) पाण्डु की राजपत्नी
कुन्ती का दूसरा नाम; -ज-(पुं.)
कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिर आदि; -पति-
(पुं.) पाण्डुराज ।
पृथिवी-(सं. स्त्री.) अचला, भूमि, धरा,
घरणी; -कंप-(पुं.) भूकम्प; -गीता-
(स्त्री.) पृथिवी की कथा जिसका सुन्दर
वर्णन विष्णु-पुराण में किया गया है;
-पति-(पुं.) राजा, यम; -मय-
(वि.) मृत्तिकामय; -लोक-भूलोक;
-स्थ-(वि.) भूमि पर रहनेवाला ।
पृथु-(सं. पुं.) त्रेता-युग के सूर्यवंशीय पंचम
राजा जो राजा वेणु के पुत्र थे, चतुर्थ
मन्वन्तर के एक सर्पापि, दानवों का एक
भेद, शिव, महादेव, अग्नि, विष्णु, काला
जीरा, अहिफेन, अफीम, एक हाथ का
मान; (वि.) महत्, बड़ा, विस्तृत,
चौड़ा, अधिक चतुर, प्रवीण; -क-
(पुं.) चिपिटक, चिउड़ा, बालक;
-कीर्ति-(वि.) जिसकी कीर्ति अधिक
हो; -ग्रीव-(वि.) जिसकी गरदन
मोटी हो; -चल-(वि.) वेग से
चलनवाला; -त्ता-(स्त्री.) विस्तार,
फलाव; -त्व-(पुं.) देखें 'पृथुता';
-दर्शी-(वि.) बहुदर्शी, चतुर, प्रवीण;
-पाणि-(वि.) जिसके हाथ बहुत
लंबे हों; -प्रय-(वि.) जिसका यश
दूर तक फैला हो; -यज्ञा-(वि.)
बहुत यज्ञस्वी; -ल-(वि.) महत्,
बड़ा भारी, स्थूल, अधिक; -वक्त्र-

(वि.) बड़ा मुखवाला; -शिरा-(स्त्री.)
काली जोंक; -शेखर-(पुं.) पर्वत,
पहाड़; -श्रवा-(वि.) बड़े कानोंवाला;
-स्कंध-(पुं.) शूकर, सूअर ।
पृथुलाक्ष-(सं. वि.) बड़ी-बड़ी आँखोंवाला ।
पृथुदर-(सं. पुं.) मेघ, मेढ़ा; (वि.) बड़े
पेटवाला ।
पृथ्वी-(सं. स्त्री.) सौर जगत् का वह
ग्रह जिस पर हम सब प्राणी चलते-
फिरते हैं, भूमि, धरती, मिट्टी, काला
जीरा, पुनर्नवा, बड़ी इलायची, मदार
का पौधा, पंचभूतों या तत्त्वों में से एक
जिसका प्रधान गुण गन्ध है, परन्तु गौण
रूप से इसमें स्पर्श, शब्द, रूप और रस-
ये चारों गुण भी विद्यमान हैं, एक वर्ण-
वृत्त जिसके प्रत्येक पाद में सत्रह अक्षर
होते हैं ।
पृथ्वीका-(सं. स्त्री.) बड़ी इलायची, काला
जीरा ।
पृथ्वीकुरवक-(सं. पुं.) सफेद मदार ।
पृथ्वीगर्भ-(सं. पुं.) लम्बोदर, गणेश ।
पृथ्वीगृह-(सं. पुं.) गृहवर, गुफा ।
पृथ्वीज-(सं. वि.) भूमि से उत्पन्न; (पुं.)
साम्भर नमक ।
पृथ्वीतल-(सं. पुं.) संसार, वह धरातल
जिस पर हम लोग चलते-फिरते ह ।
पृथ्वीधर-(सं. पुं.) पर्वत, पहाड़ ।
पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपति, पृथ्वीपाल-(सं. पुं.)
राजा, नरेश ।
पृथ्वीपुत्र-(सं. पुं.) मंगल ग्रह ।
पृथ्वीश-(सं. पुं.) भूपति, राजा ।
पृथ्वि-(सं. वि.) जिसका शरीर दुर्बल
हो, सफेद रंग का, चितकवरा, सामान्य,
साधारण; (स्त्री.) किरण, चितकवरी
गाय; (पुं.) एक प्राचीन ऋषि का
नाम, अन्न, जल, वेद, अमृत; -गर्भ-
(पुं.) श्रीकृष्ण; -पर्णी-(स्त्री.) पिठवन
नाम की लता; -भद्र-(पुं.) श्रीकृष्ण;
-शुंग-(पुं.) गणेश ।
पृषत्-(सं. पुं.) विन्दु, बूँद ।
पृषदश्व-(सं. पुं.) वायु, हवा ।
पृषद्वरा-(सं. स्त्री.) मेनका की कन्या का
नाम ।
पृषद्वल-(सं. पुं.) वायु का धोड़ा ।
पृषोदर-(सं. वि.) जिसका पेट छोटा हो ।
पृषोद्यान-(सं. पुं.) छोटा बगीचा ।
पृष्ट-(सं. वि.) सींचा हुआ, पूछा हुआ ।
पृष्टहायन-(सं. पुं.) गज, हाथी ।
पृष्टि-(सं. स्त्री.) जिज्ञासा, पूछने की
क्रिया, पिछला भाग ।

पृष्टिपर्णी-(सं. स्त्री.) पिठवन लता ।
पृष्ठ-(सं. पुं.) शरीर का पीछे का भाग,
पीठ, किसी वस्तु के तल का ऊपरी भाग,
पीछा, पुस्तक का पत्र या पन्ने के एक
ओर का भाग; -गोप-(पुं.)
सेना के पीछे रहकर उसकी रक्षा
करनेवाला सैनिक; -ग्रंथि-(पुं.)
कुब्ज-रोग, कुबड़; -चर-(वि.) पीछे
चलनेवाला; -ज-(वि.) जिसका
जन्म पीछे हुआ हो; -दृष्टि-(पुं.)
भाल, रीछ; -पोषक-(पुं.) सहायता
करनेवाला, सहायक; -फल-(पुं.)
किसी पिण्ड के ऊपरी भाग का क्षेत्र-
फल; -भंग-(पुं.) युद्ध की वह रीति
जिसमें शत्रु की सेना पर पीछे से
आक्रमण करके नष्ट कर दिया जाता है;
-भाग-(पुं.) पिछला भाग, पीठ;
-मांस-(पुं.) पशु आदि की पीठ पर
का मांस; -मांसाद-(वि.) पीठ पीछे
निन्दा करनेवाला, पीठ का मांस खाने-
वाला; -यान-(पुं.) घोड़े आदि की
सवारी करना; -वंश-(पुं.) पीठ
पर की हड्डी, रीढ़; -वाह्य-
(पुं.) वह पशु जिसकी पीठ पर बोझ
लादा जाता है; -शय-(वि.) पीठ के
तल सोनेवाला; -शुंग-(पुं.) जंगली
बकरा; -शुंगी-(पुं.) भैंसा, भीमसेन,
भेड़ा, नपुंसक, हिजड़ा ।
पृष्ठानुग, पृष्ठानुगामी-(सं. वि.) पीछे
चलनेवाला ।
पृष्ठस्थि-(सं. स्त्री.) देखें 'पृष्ठवंश' ।
पृष्ठय-(सं. पुं.) बोझ ढोनेवाला घोड़ा ।
पृष्ठिपर्णी-(सं. स्त्री.) पिठवन लता ।
पुं-(हिं. पु.) रोने, वाजा फूंकने आदि से
निकलनेवाला शब्द ।
पुंग-(हिं. स्त्री.) हिंडोले या झूले का
झूलते समय एक ओर से दूसरी ओर
जाना; (पुं.) एक प्रकार का पक्षी;
(मुहा.)-मारना-झूले का वेग बढ़ाना ।
पुंघट, पुंघा-(हिं. पुं.) एक प्रकार की
मटमैले रंग की चिड़िया ।
पुंघ-(हिं. पुं.) देखें 'पेच' ।
पुंघक-(हिं. पुं.) देखें 'पेचक' ।
पुंघकश-(हिं. पुं.) देखें 'पेचकश' ।
पुंठ-(हिं. स्त्री.) देखें 'पैठ', पैठ ।
पुड़-(हिं. पुं.) एक प्रकार का पीली
चोंचवाला सारस ।
पुंडकी-(हिं. स्त्री.) पुंहुक पक्षी, सोनार
की फूंकनी, गुझिया नामक पकवान ।
पुंदा-(हिं. पुं.) किसी वस्तु का निचला

भाग या आधार, तला ।
 पेंदी-(हि. स्त्री.) किसी वस्तु का निचला भाग, गुदा, मूली या गाजर की जड़ ।
 पेउश-(हि. पुं.) देखें 'पेउसी' ।
 पेउसी-(हि. स्त्री.) व्याई हुई गाय या भैंस का पहिले सात दिनों तक का दूध, एक प्रकार का पकवान ।
 पेखक-(हि. वि.) प्रेक्षक, देखनेवाला ।
 पेखना-(हि. क्रि. स.) देखना ।
 पेच-(सं. पुं.) उल्लूक पक्षी; (फ़ा. पुं.) फरेव, छल, धोखा, चक्कर, लपेट, कुश्ती का दाँव, मशीन का पुरजा, यंत्र, युक्ति, उपाय; -कश-(पुं.) बढ़इयों का एक औजार ।
 पेचक-(सं. पुं.) उल्लूक पक्षी, उल्लू, पर्यक, पलंग, मेघ, बादल ।
 पेचना-(हि. क्रि. स.) दो वस्तुओं के बीच में तीसरी वस्तु को इस प्रकार जमा देना कि उसका पता न चले ।
 पेचनी-(सं. स्त्री.) सीधी लकीर पर काढ़ा हुआ कशीदा ।
 पेचिका-(सं. स्त्री.) मादा उल्लूक पक्षी ।
 पेचिल-(सं. पुं.) गज, हाथी ।
 पेचिश-(फ़ा. स्त्री.) मल में आँव गिरने का उदर रोग ।
 पेचीदगी-(फ़ा. स्त्री.) पेचीदा होने का भाव ।
 पेचीदा-(फ़ा. वि.) पेचवाला, 'उलझन-वाला, टेढ़ा, जिसका सहज में समाधान न हो सके ।
 पेचीला-(हि. वि.) देखें 'पेचीदा' ।
 पेचुली-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का साग ।
 पेज-(हि. स्त्री.) रवड़ी, बसींधी ।
 पेठ-(हि. पुं.) शरीर के भीतर का वह भाग जहाँ पहुँचकर भोजन पचता है, उदर, पचीनी, ओंझरी, अन्तःकरण, मन, छाती के नीचे से कमर तक का ऊपरी अंग, बन्दूक या तोप का गोला भरने का स्थान, किसी पौली वस्तु का भीतरी स्थान, समाई, गर्भ, चक्की का भीतरी भाग, जीविका; (गुहा.)-काटना-मंजूरी करके कम खाना; -का घंघा-जीविका-निर्वाह का उपाय; -का पानी न पचना-भेद को रोक न सकना; -का हलका-ओछे स्वभाव का, जो गंभीर न हो; -की आग-भूख; -की बात गुप्त बात; -उल्लाना-अपने को भूखा दिखलाना, हीनता प्रकट करना; -गिरना-गर्भपात होना; -चलना-ब्राह्मणों का होना; -जलना-बड़ी भूत लगना; -देन-मन की बात कह देना; -पालना-

जीविका चलाना; -फूलना-किसी बात को जानने के लिये उत्कण्ठित होना, पेट में वायु का भर जाना; -में दाड़ी होना-बाल्यावस्था में ही चतुर होना; -में पठना-भेद की बात जानने के लिये धनिष्ठता बढ़ाना; -में होना-गुप्त रूप में कोई वस्तु किसी के पास होना, मन में होना; -हो रहना-गर्भ रहना; -वाली-गर्भवती; -से पाँच निका-लना-बुरे मार्ग में प्रवृत्त करना; -से होना-गर्भवती होना ।
 पेटक-(सं. पुं.) मंजूषा, पेटारा, समूह, ढेर ।
 पेटकियाँ-(हि. अव्य.) पेट के बल ।
 पेटल-(हि. वि.) बड़े पेटवाला, ताँदीला ।
 पेटा-(हि. पुं.) सीमा, पूरा निवरण, व्योरा, वृत्त, घरा, किसी गहरी वस्तु का मध्य भाग, बड़ा टोकरा, पशुओं की अंतड़ी, नदी के बहने का मार्ग, नदी का पाट ।
 पेटाक-(सं. पुं.) पेटक, पिटारा ।
 पेटागि-(हि. स्त्री.) पेट की आग, मूख ।
 पेटारा-(हि. पुं.) देखें 'पिटारा' ।
 पेटार्थी, पेटार्थ-(हि. वि.) पेट भरने के लिये कुछ भी करनेवाला, पेटू, भुक्खड़ ।
 पेटिका-(हि. स्त्री.) छोटी पिटारी ।
 पेटो-(हि. स्त्री.) छोटा संदूक, चपरास, पेट का वह भाग जहाँ त्रिवली पड़ती है, छाती और पेटू के बीच का स्थान, कटि-बन्ध, चौड़ा तसमा, नाई का कैंची, छुरा आदि रखने का थैला, बलबल की कमर में बाँधने की डोरी ।
 पेटू-(हि. वि.) जो बहुत खाता हो, भुक्खड़ ।
 पेड-(हि. पुं.) देखें 'पैठ' ।
 पेठा-(हि. पुं.) कूप्माण्ड, सफेद कुम्हड़ा ।
 पेड़-(हि. पुं.) वृक्ष ।
 पेड़ना-(हि. क्रि. स.) देखें 'पेरना' ।
 पेड़ा-(हि. पुं.) खीरे और चीनी की बनी हुई गोल चिपटी मिठाई, गुंथे हुए आटे की लोई ।
 पेड़ी-(हि. स्त्री.) काण्ड, पेड़ का घड़, शरीर का ऊपरी भाग, पान की पुरानी लता, वह खेत जिसमें पहिले ऊँच बोई गई हो पर बाद में वह खत गहूँ बोने के लिये जोता जाय ।
 पेड़ू-(हि. पुं.) गर्भाशय, उपस्थ, नाभि और मूत्रेन्द्रिय के बीच का स्थान ।
 पेत्य-(सं. पुं.) अमृत, घी, वकरा ।
 पेदड़ी-(हि. स्त्री.) देरी 'पिही' ।
 पेन-(हि. पुं.) लिताए की जाति का एक वृक्ष ।
 पेहाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'पहनाना',

दुहते समय गाय, भैंस आदि के धन से दूध उतरना ।
 पेम-(हि. पुं.) देखें 'प्रेम' ।
 पेमचा-(हि. पुं.) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा ।
 पेय-(सं. पुं.) जल, दूध, पीने की वस्तु; (वि.) पीने योग्य, जो पिया जा सके ।
 पेया-(सं. स्त्री.) चावल के माँड़ की बनी हुई एक प्रकार की लपसी ।
 पेयूप-(सं. पुं.) व्याई हुई गाय का सात दिनों तक का दूध, पेउस, अमृत, तुरत का तपाया हुआ घी ।
 पेरना-(हि. क्रि. स.) किसी काम के करने में देर लगाना, रस निकालने के लिये किसी वस्तु को दवाना, कष्ट देना, प्रेरणा करना, चलाना, भेजना, कोल्लू में तेलहन आदि का तेल निकालना ।
 पेरली-(हि. स्त्री.) ताण्डव नृत्य का एक भेदा ।
 पेरवा-(हि. पुं.) कोल्लू में तेल पेरने-वाला, तेली ।
 पेरा-(हि. पुं.) दीवार आदि पर पोतने की पीली मिट्टी, पोतनी मिट्टी ।
 पेरु-(सं. पुं.) अग्नि, सूर्य, समुद्र ।
 पेरोज-(सं. पुं.) फीरोजा नामक रत्न ।
 पेल-(सं. पुं.) पुरुष का अण्डकोप ।
 पेलड़-(हि. पुं.) देखें 'पिल्हड़' ।
 पेलना-(हि. क्रि. स.) धक्का देना, ढकेलना, टालना, बल प्रयोग करना, घुसाना, जोर से भीतर को दवाना, गुदा-मंथन करना, त्यागना, हटाना, आक्रमण करने के लिये आगे बढ़ाना, ठेलना, देखें 'पेरना' ।
 पेलव-(सं. वि.) मृदु, कोमल, लघु, विरल, कृश, दुबला-पतला, सूक्ष्म ।
 पेलवाना-(हि. क्रि. स.) पेलने का काम दूसरे से कराना ।
 पेला-(हि. पुं.) आक्रमण, धावा, मगड़ा, अपराध, पेलने की क्रिया या भाव ।
 पेलि-(सं. वि.) गमनशील, जानेवाला ।
 पेलिवाला-(सं. स्त्री.) अरबशाला ।
 पेलू-(हि. पुं.) उपपत्ति, जार, गुदामंजन करनेवाला ।
 पेलहड़-(हि. पुं.) अण्डकोप ।
 पेदें-(हि. पुं.) प्रेम, स्नेह ।
 पेवकण्ड-(हि. पुं.) देखें 'पियकण्ड' ।
 पेवरी-(हि. स्त्री.) रामरत्न, गोलि रंग की चिकनी मिट्टी ।
 पेवर-(हि. पुं.) पीना रंग ।
 पेवस-(हि. पुं.) व्याई हुई गाय या भैंस का पहिले सात दिनों तक का दूध ।

पेवसी—(हि. स्त्री.) देखें 'पेवस' ।
 पेव—(फा.अव्य.) आगे, सामने, उपस्थित ।
 पेवाल—(सं. वि.) दक्ष, प्रवीण, चतुर,
 घृत, कोमल; (पुं.) विष्णु ।
 पेवालता—(सं. स्त्री.) सुकुमारता, सुन्दरता,
 घूर्तता ।
 पेवावा—(फा. पुं.) नेता, सरदार, मराठा-
 शासन में प्रधान मंत्री की उपाधि ।
 पेवास्कार—(सं. पुं.) रूप बदलनेवाला कीड़ा ।
 पेवा—(फा. पुं.) घघा, रोजगार ।
 पेवाव—(फा. पुं.) मूत्र, मूत, शुक्र, वीर्य;
 —खाना—(पुं.) पेवाव करने का स्थान ।
 पेशि—(सं. स्त्री.) अंडा, अरहर की दाल ।
 पेशिका—(सं. स्त्री.) अंडा ।
 पेशी—(सं. स्त्री.) अंडा, वज्र, उड़द की
 दाल, फूल की पकी हुई कली, जटामासी,
 तलवार का म्यान, एक प्रकार का ढोल,
 गर्भकोप, शरीर के भीतर का मांस का
 पिंड, पुट्टा ।
 पेशीकोष—(सं. पुं.) अण्डकोष ।
 पेष्क—(सं. वि.) पीसनेवाला ।
 पेष्ण—(सं. पुं.) चूर्ण करना, पीसना ।
 पेष्णी—(सं. स्त्री.) मसाले आदि पीसने
 की सिल, खरल ।
 पेष्णीय—(सं. वि.) पीसने योग्य ।
 पेष्ना—(हि. क्रि. स.) देखें 'पेखना' ।
 पेस—(हि. अव्य.) देखें 'पेस' ।
 पेसल—(हि. वि.) देखें 'पेशल' ।
 पेहँटा—(हि. स्त्री.) कचरी नामक लता
 का फल जो कुँदरू के आकार का होता है ।
 पैकड़ा—(हि. पुं.) पैर का कड़ा, अँट की तकेला ।
 पैंच—(हि. स्त्री.) मोर की पूँछ, घनुष
 की डोरी ।
 पैंचना—(हि. क्रि. स.) अनाज फटकना,
 पछोरना ।
 पैंचा—(हि. पुं.) पलटा, हेर-फेर ।
 पैंचना—(हि. पुं.) पैर में पहनने का एक
 गहना ।
 पैंचनियाँ, पैंचनी—(हि. स्त्री.) पैर में
 पहनने का एक गहना जो चलने पर
 झन-झन शब्द करता है, सगड़ या बैल
 गाड़ी के पहिये की वह गोल लकड़ी जिसके
 छेद में पहिये का धुरा घुसा रहता है ।
 पैठ—(हि. स्त्री.) हाट, दुकान, हाट
 लगने का दिन ।
 पैठोर—(हि. पुं.) दुकान, हाट ।
 पैड़—(हि. पुं.) मार्ग, पगडड़ी, पग, डग ।
 पैड़ा—(हि. पुं.) प्रणाली, रीति, मार्ग,
 पथ, घुड़खाल; (मुहा.) पैड़े पड़ना—
 तंग करना, पीछे पड़ना ।

पेंडिया—(हि. पुं.) कोल्हू में गन्ना मरनेवाला ।
 पेंत—(हि. स्त्री.) पण, दाँव ।
 पेंताल(ली)स—(हि. वि.) चालीस और
 पाँच की संख्या का; (पुं.) चालीस और
 पाँच की संख्या, ४५ ।
 पेंती—(हि. स्त्री.) श्राद्धादि कर्म करते
 समय अंगुलियों में पहिनने का कुश का
 बना हुआ छल्ला, पवित्री ।
 पेंतीस—(हि. वि.) तीस और पाँच की
 संख्या का; (पुं.) तीस और पाँच की
 संख्या, ३५ ।
 पैयाँ—(हि. स्त्री.) पाँव, पैर ।
 पैसठ—(हि. वि.) साठ और पाँच की
 संख्या का; (पुं.) साठ और पाँच की
 संख्या, ६५ ।
 पै—(हि. पुं.) माँड़ी देने की क्रिया; (स्त्री.)
 दोप, ऐंव, त्रुटि; (अव्य.) ओर, निकट,
 पास, समीप, परन्तु, पर, अनन्तर, पीछे,
 पश्चात्, (प्रत्य.) अधिकरणसूचक
 विभक्ति पर, ऊपर, करणसूचक विभक्ति-
 द्वारा, से; जो प—(अव्य.) यदि; —तो पै
 (अव्य.) तो फिर ।
 पैकर—(हि. पुं.) कपास से रूई इकट्ठी
 करनेवाला ।
 पैकरमा—(हि. स्त्री.) देखें 'परिक्रमा' ।
 पैकरी—(हि. स्त्री.) पाँव में पहिनने का
 एक गहना ।
 पैका—(हि. पुं.) पैसा ।
 पैकार—(फा. पुं.) फुटकर माल बेचनेवाला ।
 पैकारी—(हि. पुं.) देखें 'पैकार' ।
 पैकी—(हि. पुं.) मेले आदि में घूम-पूमकर
 तमाखू पिलानेवाला ।
 पैकैट—(हि. पुं.) पुलिन्दा, छोटी गठरी ।
 पैखाना—(हि. पुं.) पायखाना, शौचालय ।
 पैगंबर—(फा. पुं.) ईश्वर का दूत, नबी ।
 पैगंबरी—(फा. वि.) पैगंबर का ।
 पग—(हि. पुं.) कदम, डग ।
 पैगाम—(फा. पुं.) संदेश, समाचार ।
 पैगामी—(फा. पुं.) संदेश-वाहक ।
 पैज—(हि. स्त्री.) प्रतिज्ञा, पण, टेक,
 किसी के विरोध में किया जानेवाला
 होड़, प्रतिस्पर्धा; (पुं.) पैतरा ।
 पैजनी—(हि. स्त्री.) देखें 'पैजनी' ।
 पैजा—(हि. पुं.) किवाड़ के छेद में पहिनाया
 हुआ लोहे का कड़ा ।
 पैजासा—(हि. पुं.) देखें 'पायजामा' ।
 पैजावा—(हि. पुं.) ईट पकाने का मट्टा ।
 पैठ—(हि. स्त्री.) प्रवेश, घुसने का काम,
 पहुँच, गति, आना-जाना ।
 पैठाना—(हि. क्रि. स.) प्रवेश कराना, घुसाना ।

पैठार—(हि. पुं.) प्रवेश, पैठ, प्रवेश-द्वार ।
 पैठारी—(हि. स्त्री.) प्रवेश, पैठ, पहुँच ।
 पैठी—(हि. स्त्री.) काम का बदला ।
 पैड़ी—(हि. स्त्री.) सीढ़ी, पुरवट खींचते
 समय बैलों के चलने के लिये बना हुआ
 ढालवाँ मार्ग, पौदर ।
 पैतरा—(हि. पुं.) मल्ल-युद्ध में अथवा
 तलवार चलाते समय घूम-फिरकर पैर
 रखने की मुद्रा, धूल पर पड़ा हुआ पैर
 का चिह्न ।
 पैतरेवाजी—(हि. स्त्री.) चालवाजी ।
 पैतला—(हि. वि.) छिछला, कम गहरा ।
 पैताना—(हि. पुं.) देखें 'पायँता' ।
 पैतामह—(सं. वि.) पितामह-सम्बन्धी ।
 पैतृक—(सं. वि.) पितृसम्बन्धी; —भूमि-
 (स्त्री.) जिस स्थान में वाप-दादे रहते
 आ रहे हों ।
 पैत्त—(सं. वि.) पित्तज, पित्त से उत्पन्न,
 पित्त-सम्बन्धी ।
 पैत्तल—(सं. वि.) पीतल-सम्बन्धी ।
 पैत्तिक—(सं. वि.) पित्त से उत्पन्न, पित्त-
 सम्बन्धी ।
 पैत्र—(सं. वि.) पितृ-सम्बन्धी ।
 पैथला—(हि. वि.) छिछला, उथला ।
 पैदर—(हि. पुं.) देखें 'पदल' ।
 पैदल—(हि. पुं.) पदाति, सिपाही, पाँव-
 पाँव चलना; (वि.) पाँव-पाँव चलने-
 वाला; (अव्य.) पाँव-पाँव ।
 पैदा—(फा. वि.) उत्पन्न ।
 पैदावार—(हि. पुं.), पैदावारी—(हि. स्त्री.)
 खेत की उपज ।
 पैना—(हि. पुं.) छोटा नाला, नाली, परनाली ।
 पैना—(हि. पुं.) हलवाहों की बैल हाँकने
 की छोटी छड़ी, लोहे की नुकीली छड़,
 अंकुश, धातु गलाने का मसाला; (वि.)
 तीक्ष्ण, धारदार, चोखा ।
 पैनाक—(सं. वि.) पिनाक-सम्बन्धी ।
 पैनाना—(हि. क्रि. स.) छुरी आदि की धार
 चोखी करना ।
 पैमक—(हि. स्त्री.) कलावत् की बनी
 हुई एक प्रकार की सुनहरी गोठ ।
 पैमाल—(हि. वि.) नष्ट ।
 पैयाँ—(हि. स्त्री.) पैर, पाँव ।
 पैया—(हि. पुं.) पोला दाना, बिना सत्त
 का अन्न का दाना, दीन-हीन मनुष्य ।
 पैर—(हि. पुं.) स्थित होने और चलने का
 अंग, चरण, पाँव, धूल आदि पर पड़ा हुआ
 पैर का चिह्न, खलियान, डंठल सहित
 अन्न का गाँज जो दैवरी चलाने भर हो;
 —उठान—(पुं.) मल्ल-युद्ध की एक युक्ति;

-गाड़ी-(स्त्री.) वह हलकी गाड़ी जो बैठे-बैठे पैर से चलाने से चलती है, यथा-बाइसिकल।
पैरना-(हि. क्रि. अ.) पानी के ऊपर हाथ-पैर चलाते हुए बहना, तैरना।
पैरवो-(फा. स्त्री.) पीछे-पीछे जाना, अनुगमन, मुकदमे की देखरेख।
पैरा-(हि. पुं.) पड़े हुए चरण, आया हुआ पग, पैर में पहिनने का एक प्रकार का कड़ा, वाट, बटखरे रखने का लकड़ी का खाना, ऊँचाई पर चढ़ने के लिये वल्ले आदि रखकर बना हुआ मार्ग।
पैराई-(हि. स्त्री.) तैरने की क्रिया, तैरने की कला।
पैराक-(हि. पुं.) तैरनेवाला, तैराक।
पैराना-(हि. क्रि. स.) तैरने का काम करना।
पैराव-(हि. पुं.) डुबाव, इतना गहरा पानी जो तैरकर ही पार किया जा सकता हो।
पैरी-(हि. स्त्री.) पैर में पहिनने का एक चौड़ा गहना, दैवरी, अनाज के सूखे डंठलों पर बँल चलाकर दाना अलगाने का कार्य, बाल कतरने का काम।
पैरेखना-(हि. क्रि. स.) देखें 'परिखना'।
पैरोकार-(हि. पुं.) मालिक की आज्ञा-नुसार काम का प्रबंध करनेवाला।
पैलगी-(हि. स्त्री.) पालागन, प्रणाम।
पैला-(हि. पुं.) अन्न नापने की डलिया, दूध-बही ढापने का मिट्टी का पात्र।
पैलो-(हि. स्त्री.) देखें 'पैला'।
पैशाल्य-(सं. पुं.) पेशालता, कोमलता।
पैशाच-(सं. वि.) पिशाच-सम्बन्धी;
-विवाह-(पुं.) आठ प्रकार के विवाहों में से वह विवाह जो सोई हुई कन्या को हरण करके अथवा मदोन्मत्त कन्या के साथ बलात्कार करके उससे विवाह किया जाता है।
पैशाचिक-(सं. वि.) पिशाच सम्बन्धी, राक्षसी, बीभत्स।
पैशाची-(सं. स्त्री.) प्राकृत भाषा का एक भेद।
पैशुन-(सं. पुं.) पिशुनता, चुगलखोरी।
पैशुनिक-(सं. वि., पुं.) शीठ पीछे निन्द्य करनेवाला, चुगलखोर।
पैशुन्ध-(सं. पुं.) पिशुनता, चुगली।
पैशिक-(सं. पुं.) आटे की सड़ाकर बनी हुई मदिरा।
पैसना-(हि. क्रि. अ.) प्रवेश करना, घुसना, धँठना।
पैसरा-(हि. पुं.) व्यापार, प्रयत्न, झंझट, बखेड़ा।

पैसा-(हि. पुं.) तीन पाई अथवा पाच आने के मूल्य की ताँबे की मुद्रा, धन।
पैसार-(हि. पुं.) प्रवेश-द्वार, आने-जाने का मार्ग।
पैसिजर गाड़ी-(हि. स्त्री.) यात्रियों को ले जानवाली रेलगाड़ी।
पैसेवाला-(हि. पुं.) बनी, धनवान्।
पैहरा-(हि. पुं.) प्रकार, बनिया।
पैहारी-(हि. वि.) केवल दूध पीकर रहनेवाला (साधु)।
पों-(हि. स्त्री.) अधोवायु निकलने का शब्द, मोपा फूकने से निकला हुआ शब्द।
पोंकना-(हि. क्रि. अ.) बहुत डरना, पतला शौच होना।
पोंका-(हि. पुं.) बड़ा फतिगा जो पौधों पर उड़ता फिरता है।
पोंगा-(हि. पुं.) टीन आदि की नली, चोंगा, वाँस की पोर या नली; (वि.) पोला, खोखला, मूर्ख।
पोंगी-(हि. स्त्री.) छोटी पोली नली, वाँस या ऊख का दो गाँठों के बीच का स्थान।
पोंछ-(हि. स्त्री.) देख 'पूँछ'।
पोंछन-(हि. पुं.) किसी वस्तु का पोंछकर निकाला हुआ अंश।
पोंछना-(हि. क्रि. स.) किसी लगी या चिपकी हुई वस्तु को कपड़े आदि से हटाना, सगड़कर स्वच्छ करना, काछना; (पुं.) पोंछने का कपड़ा।
पोंटा-(हि. पुं.) नाक से निकला हुआ मल।
पोआ-(हि. पुं.) साँप का छोटा बच्चा।
पोआना-(हि. क्रि. स.) पोने का काम दूसरे से कराना, आटे की लोई को बँलकर सँकने के लिये देना।
पोइया-(हि. स्त्री.) घोड़े का दो-दो पैर फेंककर दौड़ना, घोड़े की सरपट चाल।
पोइस-(हि. स्त्री.) घोड़े की सरपट चाल; (अच्य.) देखो, हटो, बचो।
पोई-(हि. स्त्री.) एक लता जिसकी पत्तियों का साग खाया जाता है, अंकुर, गेहूँ आदि का छोटा पौधा, ऊख का कल्ला या अँवुआ।
पोकना-(हि. पुं.) देखें 'पोंकना'।
पोख-(हि. पुं.) पालने-पोसना का संबंध, पोस।
पोखनरी-(हि. स्त्री.) जुलाहे की ढरकी के बीच का गड्ढा।
पोखना-(हि. क्रि. स.) पालना-पोसना, थलकना।
पोखर-(हि. पुं.) तालाव, पोखरा।
पोखरा-(हि. पुं.) खोद कर बनाया हुआ तालाव।

पोखराज-(हि. पुं.) देखें 'पुखराज'।
पोखरी-(हि. स्त्री.) छोटा पोखरा या तालाव।
पोगंड-(सं. पुं.) पाँच वर्ष से दस वर्ष तक की अवस्था का बालक, वह मनुष्य जिसका कोई अंग छोटा-बड़ा या अधिक हो।
पोच-(हि. वि.) क्षीण, हीन, तुच्छ, नीच, क्षुद्र।
पोचारा-(हि. पुं.) देखें 'पुचारा'।
पोची-(हि. स्त्री.) निचाई, हेठी, बुराई।
पोट-(सं. पुं.) स्पर्श, मेल, मिलन; (हि. स्त्री.) मोटरी, पोटली, बकुचा, ढर, पुस्तक के पत्तों का वह स्थान जहाँ सिलाई होती है।
पोटगल-(सं. पुं.) नरकट, काँस, एक प्रकार का सर्प।
पोटना-(हि. क्रि. स.) फुसलाना, बातों में फँसाना, समेटना, बटोरना।
पोटरी-(हि. स्त्री.) देखें 'पोटली'।
पोटला-(हि. पुं.) बड़ी गठरी।
पोटली-(हि. स्त्री.) छोटी गठरी या बकुचा।
पोटा-(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसमें पुरुष के लक्षण हों; (पुं.) पेट की थैली, सामर्थ्य, समाई, चिड़िया का बच्चा, गेदा, नाक का मल, आँख की पलक, अँगुली का छोर।
पोटुलिका, पोटुली-(सं. स्त्री.) पोटरी, छोटी गठरी।
पोडु-(सं. पुं.) खोपड़ी का ऊपर का भाग।
पोड़ा-(हि. वि.) दूढ़, पुष्ट, कठोर, कड़ा।
पोड़ाना-(हि. क्रि. अ., स.) पुष्ट करना, पक्का करना या होना, पुष्ट होना।
पोल-(सं. पुं.) नाव, जहाज, घर की नीबें, वस्त्र, दस बरस का हाथी, छोटा पौधा, पशु आदि का छोटा बच्चा; (हि. स्त्री.) माला या गुरिया का दाना, काँच की गुरिया; (पुं.) प्रवृत्ति, ढंग, अवसर, दाँव, भूमि-कर या लगान।
पोलक-(सं. पुं.) तीन महीने का बच्चा, एक नाग का नाम।
पोलकी-(सं. स्त्री.) पोई नाम की लता।
पोलज-(सं. पुं.) घोड़े, हाथी आदि का वह बच्चा जो खेड़ी सहित उत्पन्न हो।
पोलड़ा-(हि. पुं.) बच्चों के चूतड़ के नीचे रखने का वस्त्र, गँड़तरा।
पोलदार-(हि. पुं.) कोपाध्यक्ष जिसके पास लगान का रुपया रखा जाता है, कोष में रुपयों को परखनेवाला।
पोलधारी-(सं. पुं.) जहाज का अध्यक्ष।
पोतन-(सं. वि.) स्वच्छ, पवित्र, पवित्र करनेवाला।

पोतनहर—(हि. स्त्री.) वह पात्र जिसमें पोतने के लिये मिट्टी घोलकर रखी हो, घर पोतनेवाली स्त्री, आँत, अँतड़ी।

पोतना—(हि. क्रि. स.) किसी गीले पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर फैलाकर लगाना, चुपड़ना; गोबर, मिट्टी, चूना आदि से किसी स्थान को लीपना; (पुं.) पोतने का कपड़ा।

पोतनायक—(सं. पुं.) जहाज का अधिकारी, नाव का माँझी।

पोतभंग—(सं. पुं.) जहाज का चट्टान से टक्कर खाकर नष्ट होना।

पोतरक्ष—(सं. पुं.) नाव चलाने का डाँड़ा या लग्गी।

पोतला—(हि. पुं.) तवे पर घी लगाकर सेंकी हुई चपानी, पराठा।

पोतवाह—(सं. पुं.) मल्लाह, माँझी।

पोतांड—(सं. पुं.) घोड़े के अण्डकोष का एक रोग।

पोता—(हि. पुं.) पौत्र, बेटे का वेटा, वृता, सामर्थ्य, धुली हुई मिट्टी जो भीत आदि पर पोती जाती है, पोतने का कपड़ा, अंडकोष।

पोताच्छादन—(सं. पुं.) तम्बू, डेरा।

पोतारा—(हि. पुं.) देख 'पुतारा'।

पोतारी—(हि. स्त्री.) पोतने का कपड़ा।

पोताश्रय—(सं. पुं.) वन्दरगाह।

पोतास—(सं. पुं.) भीमसेनी कपूर।

पोतिका—(सं. स्त्री.) पोई की लता, वस्त्र, कपड़ा।

पोतिया—(हि. पुं.) सुरती, चूना, सुपारी आदि रखने की छोटी थैली, एक प्रकार का खिलौना।

पोती—(हि. स्त्री.) पौत्री, पुत्र की बेटो, रेशमी कपड़े पर माँझी चढाने की क्रिया, मिट्टी का लेप जो हँडिये की पैदी पर किया जाता है।

पोत्र—(सं. पुं.) हल का फाल, वज्र, जहाज, नाव।

पोत्रायुध—(सं. पुं.) झूकर, सूअर।

पोथकी—(सं. स्त्री.) छोटे बच्चों का आँख का एक रोग।

पोथी—(हि. पुं.) कागजों की गड्डी, वड़े आकार की पोथी।

पोथी—(हि. स्त्री.) पुस्तिका, किताब।

पोदना—(हि. पुं.) छोटे डीलडौल का पुरुष, नाटा या ठेंगना आदमी, एक प्रकार की छोटी चिड़िया।

पोदार—(हि. पुं.) देखें 'पोतदार'।

पोना—(हि. क्रि. स.) गूथे हुए आटे की

लोई को हथेलियों से गढ़कर रोटी बनाना, पिरोना, गूथना, पकाना।

पोपला—(हि. वि.) सिकुड़ा हुआ, पचका हुआ, बिना दाँत का, जिसके मुख में दाँत न हों, जिसमें पोल हो, खोखला।

पोपलाना—(हि. क्रि. अ.) पोपला होना।

पोपली—(हि. स्त्री.) आम की गुठली को घिसकर बनाया हुआ बच्चों का वाजा।

पोय—(हि. स्त्री.) देखें 'पोई'।

पोया—(हि. पुं.) नरम छोटा पौधा, बच्चा, साँप का छोटा बच्चा।

पोर—(हि. स्त्री.) अँगुली की गाँठ या जोड़, दो गाँठों के बीच का अँगुली का भाग, रीढ़, पीठ; ऊख, बाँस आदि का वह भाग जो दो गाँठों के बीच में हो।

पोरा—(हि. स्त्री.) लकड़ी का मण्डलाकार टुकड़ा, लकड़ी का गोल कुन्दा, कुन्दे की तरह मोटा मनुष्य।

पोरिया—(हि. स्त्री.) छल्ले के आकार का वह गहना जो हाथ या पैर के पोरों पर पहना जाता है।

पोरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की कड़ी मिट्टी।

पोल—(सं. वि.) प्रभावयुक्त; (पुं.) एक प्रकार का पकवान, नाभि के नीचे का भाग; (हि. पुं.) अवकाश, शून्य स्थान, सारहीनता, खोखलापन, प्रवेश-द्वार, आँगन; (मुहा.)—**खोलना**—गुप्त बात अथवा किसी के दोष को प्रकट करना।

पोला—(हि. वि.) जो भीतर से भरा न हो, पोपला, खोखला, निःसार, तत्त्व-रहित; (पुं.) एक प्रकार का छोटा वृक्ष जिसकी लकड़ी सफेद और गूढ होती है।

पोलाद—(हि. पुं.) पक्का लोहा।

पोलारी—(हि. स्त्री.) सोनार का छेनी के आकार का एक छोटा आला।

पोलाव—(हि. वि.) देखें 'पुलाव'।

पोलिद—(सं. पुं.) नाव में यात्रियों के बैठने की दोनों ओर की पटरियाँ।

पोलिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की पूरी या पूआ।

पोलिया—(हि. स्त्री.) पैर में पहिने का एक पोला गहना।

पोली—(सं. स्त्री.) पतली रोटी; (हि. स्त्री.) जगली कुसुम।

पोलो—(अ. पुं.) हाकी-जैसा घुड़सवार खिलाड़ियों का खेल।

पोश—(फा. पुं.) पहनने की चीज, कपड़ा, ढकनेवाला कपड़ा।

पोशाक—(फा. स्त्री.) पहनावा, वस्त्र।

पोप—(सं. पुं.) पालन-पोषण, वृद्धि, बढ़ती, सन्तोष, तृप्ति।

पोषक—(सं. वि.) पालक, पालनेवाला, बढ़ानेवाला, सहायता देनेवाला।

पोषण—(सं. पुं.) पुष्टि, पालन, बढ़ती, सहायता।

पोषध—(हि. पुं.) उपवास, व्रत।

पोषधोषित—(सं. वि.) उपवास करनेवाला

पोषना—(हि. क्रि. स.) पालना।

पोषधिष्णु—(सं. वि.) पोषक, पालनेवाला।

पोषित—(सं. वि.) पाला हुआ।

पोष्य—(सं. वि.) पोषण-योग्य, पालने योग्य;

(पुं.) भृत्य, सेवक, नौकर।

पोष्यपुत्र—(सं. पुं.) पुत्र के समान पाला

हुआ लड़का, दत्तक पुत्र, पालत।

पोस—(हि. पुं.) पालनेवाले के प्रति प्रेम-भाव।

पोसन—(हि. पुं.) रक्षा, पालन।

पोसना—(हि. क्रि. स.) रक्षा करना, पालना, अपनी रक्षा में रखना।

पोस्ता—(हि. पुं.) अफीम का पौधा, उसका बीज, खसखस।

पोहना—(हि. क्रि. स.) पिरोना, गूथना, घिसना, पीसना, घुसाना, धंसाना, -जड़ना, छेदना, पोतना, (वि.) घुसने-वाला।

पोहर—(हि. पुं.) पशुओं के चरने का स्थान, चरागाह, पशुओं का चारा।

पोहमी—(हि. स्त्री.) देखें 'पुहमी', पृथ्वी।

पोहा—(हि. पुं.) पशु, चौपाया।

पोहिया—(हि. पुं.) चरवाहा।

पौचा—(हि. पुं.) साढ़े पाँच का पहाड़।

पौडई—(हि. वि.) पौंडे के रंग का।

पौडरीक—(सं. पुं.) एक प्रकार का कुण्ड, स्थल-कमल।

पौड़ा (ढा)—(हि. पुं.) एक प्रकार की बड़ी और मोटी जाति की ऊख जिसका छिलका कड़ा होता है, परन्तु रस बहुत मीठा होता है।

पौड़ी—(हि. स्त्री.) देखें 'पौरी'।

पौड़, पौड़क—(सं. पुं.) मोटा गन्ना, पाँड़ा, भीमसेन के एक शाख का नाम, पुण्ड्र देश का राजा जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था, एक प्राचीन पतित जाति।

पौंदना, पौरना—(हि. क्रि. अ.) तैरना।

पौरि—(हि. स्त्री.) देखें 'पौरी'।

पौरिया—(हि. पुं.) देखें 'पौरिया'।

पौंचल्य—(सं. पुं.) पुरुष और स्त्री का छिपकर व्यभिचार।

पौंसवन—(सं. पुं.) पुंसवन सस्कार।

पौ—(हि. स्त्री.) पौसला, प्याऊ, सूर्योदय,

किरण, पासे की एक चाल या दाँव; (पुं.) पैर, जड़; (मुहा.)—फटना—प्रातःकाल होना;—वारह होना—जोत का दाँव पड़ना, खूब बन आना, लाम होना।
 पौआ—(हिं. पुं.) देखें 'पौवा'।
 पौगंड—(सं. पुं.) पाँच वर्ष से दस वर्ष तक की अवस्था।
 पौठ—(हिं. स्त्री.) जोत की वह रीति जिसके अनुसार जोतने का अधिकार प्रतिवर्ष बदलता जाता है।
 पौढ़ना—(हिं. क्रि. अ.) लेटना, सोना, हिलते हुए झूलना।
 पौढ़ाना—(हिं. क्रि. स.) इधर से उधर हिलाना या झुलाना, लेटाना, सुलाना।
 पौष्य—(सं. वि.) पुष्य कर्म करनेवाला।
 पौताना—(हिं. पुं.) देखें 'पैताना'।
 पौत्तलिक—(सं. वि.) पुतली-संबंधी।
 पौत्र—(सं. पुं.) पुत्र का पुत्र, पोता।
 पौत्रिकेय—(सं. पुं.) लड़की का लड़का, नाती जो अपने नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो।
 पौत्री—(सं. स्त्री.) पुत्र की बेटी, पोती।
 पौद—(हिं. स्त्री.) छोटा पौधा, नया उगा हुआ पेड़, वह छोटा पौधा जो एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में लगाया जाता है, सन्तान, वंश, बड़े लोगों के चलने के लिये भूमि पर बिछाया हुआ वस्त्र, पाँवड़ा।
 पौदर—(हिं. स्त्री.) पैर का चिह्न, पग-डंडी, वह ढालुआँ मार्ग जिम पर से बैल कुएँ से पुरवट खींचते समय आते-जाते हैं।
 पौव—(हिं. स्त्री.) छोटा वृक्ष।
 पौवन—(हिं. स्त्री.) वह पात्र जिसमें खाना रखकर परोसा जाता है।
 पौधा—(हिं. पुं.) नया जामा हुआ पेड़, छोटा पेड़, क्षुप, गुल्म।
 पौधि—(हिं. स्त्री.) देखें 'पौद'।
 पौनःपुनिक—(सं. वि., पुं.) गणित में दश-मलत्र के अंक जो बारंबार आवृत्त होते हैं, बार-बार होनेवाला।
 पौन—(हिं. पुं.) देखें 'पवन', वायु, हवा; (वि.) तीन-चौथाई (भाग)।
 पौनरुप्य—(सं. पुं.) बारंबार कहना।
 पौनर्णाव—(सं. वि.) सन्निपात ज्वर का एक भेद।
 पौनर्भव—(सं. पुं.) वह पुत्र जो उस स्त्री से उत्पन्न हो जो विधवा होने पर अथवा पति के द्वारा त्याग जाने पर अपनी इच्छा से दूसरे से विवाह कर ले।
 पौनर्भवा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका

किसी के साथ एक बार विवाह हो चुका हो और दूसरी बार दूसरे के साथ विवाह किया जाय।
 पौना—(हिं. पुं.) पौन का पहाड़ा, लोहे की बड़ी करछी या झरना।
 पौनार, पौनारि—(हिं. स्त्री.) कमल के फूल की नाल।
 पौनी—(हिं. स्त्री.) नाऊ, वारी, घोवी आदि जो विवाहादि उत्सवों पर नेग पाते हैं, छोटा पौना।
 पौने—(हिं. वि.) किसी संख्या का तीन-चौथाई।
 पौमान—(हिं. पुं.) जलाशय, पोखरा।
 पौरंदर—(सं. वि.) इन्द्र-संबंधी; (पुं.) ज्येष्ठा नक्षत्र।
 पौर—(सं. पुं.) रोहिष नाम की घास, नखी नामक गन्धद्रव्य; (वि.) नगर-संबंधी, नगर में उत्पन्न।
 पौरक—(सं. पुं.) घर के बाहर का बगीचा।
 पौरजन—(सं. पुं.) नगर में रहनेवाला।
 पौरव—(सं. पुं.) पुरु का वंशज, पुरु देश का निवासी; (वि.) पुरुवंश का।
 पौरवी—(सं. स्त्री.) युधिष्ठिर की एक स्त्री का नाम, संगीत में एक मूर्च्छना।
 पौरसख्य—(सं. पुं.) वह मैत्री जो एक नगर या ग्राम में रहने से परस्पर होती है।
 पौरस्त्री—(सं. स्त्री.) अन्तःपुर में रहने-वाली स्त्री।
 पौरा—(हिं. पुं.) पड़े हुए चरण, आगमन।
 पौराण—(सं. वि.) पुराण में लिखा या कहा हुआ, पुराण-सम्बन्धी।
 पौराणिक—(सं. पुं.) पुराणवेत्ता, पुराण-पाठी, अठारह मात्राओं का छंद विशेष; (वि.) प्राचीन काल का, पुराण-संबंधी।
 पौरि—(हिं. स्त्री.) देख 'पौरी'।
 पौरियः—(हिं. पुं.) द्वारपाल, ड्योढ़ीदार।
 पौरी—(हिं. स्त्री.) ड्योढ़ी, सीढी, खड़ाऊँ।
 पौरुष—(सं. पुं.) पुरुषत्व, पराक्रम, साहस, उद्यम, उद्योग, गहराई या ऊँचाई की एक नाप, पुरसा; (वि.) पुरुष-संबंधी।
 पौरुषिक—(सं. वि.) पुरुष-संबंधी।
 पौरुषेय—(सं. पुं.) जन-समुदाय, पुरुष का कर्म; (वि.) पुरुष का किया हुआ, मानवीय।
 पौरुष्य—(सं. पुं.) पीरुष, साहस।
 पौरुहूत—(सं. पुं.) इन्द्र का अस्त्र, वज्र।
 पौरु—(हिं. पुं.) मिट्टी का एक भेद।
 पौरोहित्य—(सं. पुं.) पुरोहित का धर्म या कार्य।
 पौरोहित्य—(सं. पुं.) पुरोहित का कार्य, पुरोहितार्थ।

पौर्णमास—(सं. पुं.) पौर्णमासी के दिन होनेवाला एक यज्ञ।
 पौर्णमासिक—(सं. वि.) पूर्णिमा-संबंधी।
 पौर्णमासी—(सं. स्त्री.) पूर्णमासी।
 पौर्णदहिक—(सं. वि.) पूर्व-जन्म-संबंधी।
 पौर्वापर्य—(सं. पुं.) अनुक्रम।
 पौल—(हिं. स्त्री.) मार्ग, नगर का फाटक।
 पौलना—(हिं. क्रि. स.) काटना।
 पौलस्ती—(सं. स्त्री.) पुलस्त्य की कन्या, शूर्पणखा।
 पौलस्त्य—(सं. पुं.) पुलस्त्यका पुत्र या उनके वंश का पुरुष, रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण, चन्द्रमा; (वि.) पुलस्त्य-संबंधी।
 पौला—(हिं. पुं.) विना बूँटो का खड़ाऊँ जिसके छंद में लगी हुई रस्ती में पंजा फँसा रहता है।
 पौलि—(हिं. स्त्री.) पौलिका, फूलका, रोटी।
 पौलिया—(हिं. पुं.) देखें 'पौरिया'।
 पौली—(हिं. स्त्री.) पीरी, ड्योढ़ी, पैर की एड़ी से लेकर अँगुलियों तक का भाग, घूल आदि पर पड़ा हुआ पैर का चिह्न।
 पौलोमी—(सं. स्त्री.) इन्द्राणी, मृग ऋषि की पत्नी का नाम।
 पौवा—(हिं. पुं.) एक सेर का चौथाई अंश, चतुर्थांश, पाव भर दूध, पानी आदि अटने भर का पात्र।
 पौव—(सं. पुं.) बारह महीनों के अन्तर्गत नवाँ महीना, जिस महीने की पुनर्वासी पुष्य नक्षत्र में हो, पूस का महीना।
 पौष्कर—(सं. पुं.) पुष्करमूल, भसींड, स्थलपत्र, रेंड की जड़।
 पौष्करिणी—(सं. स्त्री.) छोटा पोखरा या तालाव।
 पौष्कल्य—(सं. पुं.) सम्पूर्णता।
 पौष्टिक—(सं. वि.) पुष्ट करनेवाला, बलवीर्य को बढ़ानेवाला।
 पौष्प—(सं. वि.) पुष्प-संबंधी, फूलका बना हुआ।
 पौसरा, पौसला—(हिं. पुं.) प्यासों को पानी पिलाने का स्थान, प्याऊ।
 पौसार—(हिं. स्त्री.) झुलहे का राछ को नीचा-ऊँचा करने के लिये लगा हुआ टंटा।
 पौसेरा—(हिं. पुं.) एक पाव की सील।
 पौहारी—(हिं. पुं, वि.) वह जो केवल दूध पीकर रहता है, जो अन्न आदि न खाता हो।
 प्याऊ—(हिं. पुं.) पौसरा।
 प्यार—(हिं. पुं.) प्रेम, स्नेह दिग्गजाने की प्रियाएँ, यथा—आलिंगन, नुस्नान आदि, पियार नाम का वृक्ष जिसका बीज निरोंजी कहलाता है।

प्यारा—(हि.वि.,पुं.) प्रीतिपात्र, जिसको प्यार किया जाय, जो अच्छा लगे, जो छोड़ा न जाय, प्रिय ।

प्याला—(फ्रा. पुं.) पीने का पात्र ।

प्यावना—(हि. क्रि. स.) देखें 'पिलाना' ।

प्यास—(हि. स्त्री.) जल पीने की इच्छा, तृष्णा, तृषा, पिपासा, किसी पदार्थ को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, प्रबल कामना; खून की प्यास—(स्त्री.) हत्या करने की हिंसा ।

प्यासा—(हि.वि.) जिसको प्यास लगी हो, जो पानी पीना चाहता हो, पिपासार्त ।

प्युष—(सं. पुं.) विभाग, दाह ।

प्युनी—(हि. स्त्री.) सूत कातने की रूई की बत्ती, पुनी ।

प्युस—(हि. पुं.) देखें 'पेवस' ।

प्यो—(हि. पुं.) पति, स्वामी ।

प्योरी—(हि. स्त्री.) रूई की मोटी बत्ती, एक प्रकार का पीला रंग ।

प्योसर—(हि. पुं.) हाल की व्याई हुई गाये का दूध ।

प्योसार—(हि. पुं.) स्त्री के माता-पिता का घर, पीहर, मायका ।

प्र—(स. उप.) संस्कृत का एक उपसर्ग जो गति, उत्कर्ष, उत्पत्ति, आरंभ, ख्याति, व्यवहार आदि अर्थों के लिये प्रयोग किया जाता है ।

प्रकंप—(सं. पुं.) कंपकंपी, थरथराहट ।

प्रकंपन—(सं. पुं.) वायु, हवा, एक नरक का नाम, एक राक्षस का नाम, कंप, थरथराहट ।

प्रकंपमान—(सं. वि.) कांपता या थरथराता हुआ

प्रकंपित—(सं. वि.) कंपनयुक्त ।

प्रकच—(सं. वि.) जिसके बाल खड़े हों ।

प्रकट—(सं. वि.) स्पष्ट, व्यक्त, जो प्रत्यक्ष हो, आविर्भूत, उत्पन्न ।

प्रकटन—(सं. पुं.) प्रकट होने की क्रिया आदि ।

प्रकटित—(सं. वि.) जो प्रकट हुआ हो, प्रकाशित ।

प्रकथन—(स. पुं.) स्पष्ट रूप से कथन ।

प्रकर—(सं. पुं.) समूह, खिला हुआ फूल, अधिकार, संहारा; (वि.) कौशल से काम करनेवाला ।

प्रकरण—(सं. पुं.) प्रस्ताव, वृत्तान्त, प्रसंग का विषय, किसी ग्रन्थ का एक छोटा विभाग, दृश्य-काव्य के अन्तर्गत रूपक के दस भेदों में से एक ।

प्रकरणी—(सं. स्त्री.) शृंगार-रस-प्रधान कोई छोटा नाटक जिसको नाटिका भी कहते हैं ।

प्रकरी—(सं. स्त्री.) नाटक में प्रयोजन-सिद्धि के पाँच साधनों में से एक, एक प्रकार की प्रासंगिक कथा-वस्तु, एक प्रकार का गान ।

प्रकर्तव्य—(सं. वि.) अवश्य करने योग्य ।

प्रकर्ता—(सं. वि.) अच्छी तरह से काम करनेवाला ।

प्रकर्ष—(सं. पुं.) उत्तमता, अधिकता, बहुतायत ।

प्रकर्षक—(सं. पुं.) उत्तमता को बढ़ानेवाला ।

प्रकर्षण—(सं. पुं.) आधिक्य, अधिकता ।

प्रकला—(सं. स्त्री.) एक कला का साठवाँ भाग ।

प्रकल्पना—(हि. स्त्री.) निश्चित करना, स्थिर करना ।

प्रकल्पित—(सं. वि.) निश्चित किया हुआ ।

प्रकन—(सं. पुं.) पीड़ा देना, कोड़े की मार ।

प्रकांड—(सं. पुं.) वृक्ष का तना, शाखा; (वि.) बहुत विस्तृत, बहुत फैला हुआ, बहुत बड़ा ।

प्रकाम—(सं. वि.) यथेष्ट; (पुं.) कामना, इच्छा ।

प्रकार—(सं. पुं.) सादृश्य, समानता, भेद, भाँति, तरह; (हि. पुं.) प्रकार, पर-कोटा, घेरा ।

प्रकारता—(सं. स्त्री.) विषयका भेद, भिन्नता ।

प्रकारांतर—(सं. पुं.) अन्य प्रकार, दूसरी तरह का होना ।

प्रकाश—(सं. पुं.) वह तत्व जिसके माध्यम से नेत्रों को वस्तुओं के रूप, रंग, आकार आदि का ज्ञान होता है, दीप्ति, आभा, धूप, ज्योति, स्पष्ट रूप से समझ में आना, गोचर होना, विस्तार, विकास, प्रसिद्धि, ख्याति, किसी ग्रन्थ या पुस्तक का विभाग, शिव, महादेव, वैवस्वत मनु के एक पुत्र का नाम; (वि.) प्रकाशित, जगमगाता हुआ, प्रत्यक्ष, अति प्रसिद्ध; -क—(वि.) प्रकट करनेवाला; (पुं.) सूर्य, शिव, महादेव, पुस्तक आदि को छपवाकर बेचनेवाला; -कार—(पुं.) देखें 'प्रकाशक'; -ता—(स्त्री.) प्रकाश का भाव या धर्म, प्रत्यक्षता; -धर्म—(पुं.) सूर्य; -घृष्ट—(पुं.) वह नायक जो कपट रूप से नायिका के साथ घृष्टता का व्यवहार करता है तथा किसी प्रकार का संकोच नहीं करता; -न—(पुं.) विष्णु का एक नाम, प्रकाशित करने का काम, किसी ग्रन्थ को छापकर सर्व-साधारण में विक्रय करने का काम; -मान—(वि.) प्रकाशयुक्त, चमकीला, प्रसिद्ध, विख्यात; -वान्—(वि.)

देखें 'प्रकाशमान'; -वियोग—(पुं.) वह वियोग जो गुप्त न रहे अर्थात् सब को विदित हो जाय; -संयोग—(पुं.) वह संयोग जो सब को विदित हो जाय; -स्तंभ—(पुं.) जहाजों के मार्ग-प्रदर्शन के लिए बना हुआ स्तंभ ।

प्रकाशात्मा—(सं. पुं.) सूर्य, विष्णु; (वि.) सतेज, प्रकाशवाला ।

प्रकाशित—(सं. वि.) जिस पर प्रकाश पड़ रहा हो, चमकता हुआ, जो प्रकाश में आ चुका हो, शोभित, प्रगट, जिसका प्रकाशन हो चुका हो ।

प्रकाशिता—(सं. स्त्री.) प्रकाशित होने का भाव या धर्म ।

प्रकाशी—(सं. वि.) प्रकाशयुक्त, जिसमें प्रकाश हो ।

प्रकाश्य—(सं. वि.) प्रकाश के योग्य, प्रकाशित करने योग्य; (अव्य.) प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से ।

प्रकास—(हि. पुं.) देखें 'प्रकाश' ।

प्रकासना—(हि. क्रि. स.) प्रकट करना ।

प्रकीर्ण—(सं. वि.) छितराया हुआ, फैलाया हुआ, मिलाया हुआ, अनक प्रकारों या मिश्र किस्मों का ।

प्रकीर्णक—(सं. पुं.) अध्याय, प्रकरण, विस्तार, वह जिसमें विभिन्न वस्तुएँ मिली हों, फूटकर पदार्थ, घोड़ा ।

प्रकीर्णकेशी—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी ।

प्रकीर्तन—(सं. पुं.) उच्च स्वर से चिल्लाकर कीर्तन करना, घोषणा करना ।

प्रकीर्ति—(सं. स्त्री.) प्रशंसा, प्रसिद्धि, घोषणा ।

प्रकीर्तित—(सं. वि.) प्रशंसित, घोषित ।

प्रकुपित—(सं. वि.) अति क्रुद्ध, जिसको बहुत क्रोध चढ़ गया हो ।

प्रकुल—(सं. पुं.) सुन्दर शरीर ।

प्रकृत—(सं. वि.) आरंभ, आरंभ किया हुआ, निर्मित, रचा हुआ, यथार्थ, वास्तविक, सच्चा, विकाररहित; (पुं.) श्लेष अलंकार का एक भेद; -ता—(स्त्री.) यथार्थ ।

प्रकृति—(सं. स्त्री.) स्वभाव, किसी पदार्थ का गुण जो सर्वदा बना रहता हो, लिंग, योनि, संसार का निर्माण करनेवाली मूल शक्ति, आकाशादि पाँचों तत्त्व, शक्ति, परमात्मा, जन्तु, एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में इक्कीस अक्षर होते हैं, माया, भगवान् की शक्ति, सत्त्व, रज और तम की साम्यावस्था; -ज—(वि.) जो प्रकृति या स्वभाव से उत्पन्न हुआ हो; -पुरुष—(पुं.) प्रधान

राज-मंत्री; -भाव-(पुं.) स्वभाव, व्याकरण में सन्धि का वह नियम जिसमें दो पदों के मिलने से इनमें से किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता; -शास्त्र-(पुं.) वह शास्त्र जिसमें प्राकृतिक बातों का विचार किया जाता है; -सिद्ध-(वि.) स्वाभाविक, नसर्गिक, प्राकृत; -स्थ-(वि.) स्वाभाविक, जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में हो।
 प्रकृष्ट-(सं. वि.) मुख्य, प्रधान, आकृष्ट, खींचा हुआ; -ता-(स्त्री.) उत्तमता, श्रेष्ठता।
 प्रकोट-(सं. पुं.) परकोटा, परिखा।
 प्रकोप-(सं. पुं.) अधिक क्रोध, क्षोभ, चंचलता, वात, पित्त या कफ में से किसी एक के विगड़ने से उत्पन्न रोग।
 प्रकोपन-(सं. पुं.) बन्धन, क्रोध, क्षोभ, आग का सुलगना, चंचलता, वात, पित्त अथवा कफ का प्रकोप जिससे रोग उत्पन्न होता है।
 प्रकोपनीय-(सं. वि.) प्रकोपन करने योग्य।
 प्रकोपित-(सं. वि.) प्रकोप उत्पन्न किया हुआ।
 प्रकोष्ठ-(सं. पुं.) केहुनी के नीचे का भाग, धर के प्रधान द्वार के पास की कोठरी, बड़ा आंगन जिसके चारों ओर कोठरियाँ हों।
 प्रखर-(सं. पुं.) घोड़े की पाखर, कुत्ता, खच्चर; (वि.) प्रचण्ड, बहुत तेज।
 प्रक्रम-(सं. पुं.) क्रम, अवसर, उल्लंघन, आरंभ में किया हुआ उपाय।
 प्रक्रमण-(सं. पुं.) पार करना, आरंभ करना।
 प्रक्रम-भंग-(सं. पुं.) साहित्य का वह दोष जो तब होता है जब किसी प्रकरण के आरंभ का निर्वाह ठीक से नहीं किया जाता।
 प्रक्रांत-(सं. वि.) आरम्भ किया हुआ।
 प्रक्रिया-(सं. स्त्री.) प्रकरण, नियत विधि, युक्ति।
 प्रक्रोश-(सं. पुं.) आक्रोश।
 प्रक्लेद-(सं. पुं.) आद्रता, नमी, तरी।
 प्रक्लेदन-(सं. पुं.) गीला करना, भिगोना।
 प्रक्ष-(हिं. वि.) पूछनेवाला।
 प्रक्षय-(सं. पुं.) नाश।
 प्रक्षयण-(सं. पुं.) विनाशन, नाश करना।
 प्रक्षर-(सं. पुं.) घोड़े की पाखर।
 प्रक्षरण-(सं. पुं.) झरना, चूना।
 प्रक्षालन-(सं. पुं.) मार्जन, जल से धोने की क्रिया।
 प्रक्षालनीय-(सं. वि.) धोने या स्वच्छ

करने योग्य।
 प्रक्षालित-(सं. वि.) धोया हुआ, स्वच्छ किया हुआ।
 प्रक्षिप्त-(सं. वि.) फेंका हुआ, ऊपर से बढ़ाया हुआ, निविष्ट किया हुआ।
 प्रक्षेप-(सं. पुं.) वह द्रव्य जो औपच आदि में ऊपर से डाला जाय, फेंकना, छितराना, मिलाना, बढ़ाना, किसी व्यापार में अशवारियों की लगाई हुई अलग-अलग पूंजी।
 प्रक्षेपण-(सं. पुं.) निक्षेपण, फेंकना, ऊपर से मिलाना, निश्चित करना।
 प्रक्षेप-लिपि-(सं. स्त्री.) लिखावट या लिखने की एक विशेष रीति।
 प्रक्षोभण-(सं. पुं.) व्यग्रता, घबड़ाहट।
 प्रक्षेडन-(सं. पुं.) लोहे का तीर।
 प्रखर-(सं. पुं.) घोड़े की पाखर; (वि.) तीक्ष्ण, प्रचण्ड, धारदार, पैना, चोखा।
 प्रखल-(सं. वि.) अति दुष्ट, बड़ा पाजी।
 प्रख्या-(सं. स्त्री.) उपमा, समता।
 प्रख्यात-(सं. वि.) विख्यात, प्रसिद्ध।
 प्रख्याति-(सं. स्त्री.) विख्याति, प्रसिद्धि।
 प्रगंड-(सं. पुं.) कंधे से लेकर केहुनी तक का भाग।
 प्रगंडी-(सं. स्त्री.) दुर्ग की वाहरी भीत जिस पर से दूर की वस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं।
 प्रगट-(हिं. वि.) देखें 'प्रकट'।
 प्रगटना-(हिं. क्रि. अ.) सम्मुख होना, प्रकट होना, सामने आना।
 प्रगतजानु-(सं. वि.) मुड़े हुए पैरोंवाला।
 प्रगति-(हिं. स्त्री.) दंग, चाल, उन्नति; -शील-(वि.) गतियुक्त, उन्नतिशील।
 प्रगम-(सं. पुं.) आगे बढ़ना।
 प्रगमन-(सं. पुं.) उन्नति, आगे बढ़ना।
 प्रगमनीय-(सं. वि.) आगे बढ़ने योग्य।
 प्रगजंन-(सं. पुं.) बहुत जोर का शब्द, गरज।
 प्रगल्भ-(सं. वि.) उद्धत, जिसमें नम्रता न हो, निर्लज्ज, घृष्ट, अभिमानी, चतुर, उत्साही, साहसी, ठीक समय पर उत्तर देनेवाला, वक्त्रवादी, निर्भय, निडर, गम्भीर, समर्थ, मुख्य, प्रधान, पुष्ट; -ता-(स्त्री.) गम्भीरता, प्रधानता, पुष्टता, मामध्य, व्यर्थ की वक्त्रवाद, उत्साह, साहस, घृष्टता, निर्लज्जता, अभिमान, चातुरी, निर्भयता; -बचना-(स्त्री.) वह मध्या नायिका जो प्रत्येक बात में अपना दुःख और क्रोध प्रकट करती और उलाहना देती है।
 प्रगल्भा-(सं. स्त्री.) प्रौढा नायिका।
 प्रगल्भित-(सं. वि.) प्रगल्भयुक्त।

प्रगसना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'प्रगटना'।
 प्रगाढ़-(सं. वि.) अतिशय, अधिक, दृढ़, गहरा, गाढ़ा, घना, कठोर, कड़ा।
 प्रगाता-(सं. पुं.) अच्छा गानेवाला।
 प्रगाद्य-(सं. वि.) कथनीय, कहने योग्य।
 प्रगासी-(सं. वि.) जानेवाला।
 प्रगाहन-(सं. पुं.) अवगाहन, मज्जन, प्रमार्जन।
 प्रगीति-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का छंद।
 प्रगुणी-(सं. वि.) अति गुणी, गुणवान्।
 प्रगुश्य-(सं. वि.) चतुर।
 प्रगृहीत-(सं. वि.) अच्छी तरह से पकड़ा हुआ।
 प्रगृश्य-(सं. वि.) प्रातःशाथी, सबेरे के बाद तक सोनेवाला।
 प्रग्रह-(सं. पुं.) तराजू में बँधी हुई डोरी, कोड़ा, घोड़े की लगाम, किरण, गुजा, वाहु, बंदी, अनुग्रह, कृपा, किमी ग्रह के साथ रहनेवाला छोटा ग्रह, उपग्रह, ग्रहण का अवलंब या आधार, ग्रहण करने का दंग, सोना, विष्णु, शासन, आदर, सत्कार, मार्गदर्शक, अगुआ।
 प्रग्रहण-(सं. पुं.) ग्रहण करने की क्रिया या भाव।
 प्रग्रोव-(सं. पुं.) झरोखा, छोटी खिड़की, अस्तवल।
 प्रघट-(हिं. वि.) देखें 'प्रकट'।
 प्रघटना-(हिं. क्रि. अ.) प्रकट होना।
 प्रघट्टक-(सं. पुं.) सिद्धान्त; (वि.) संयोजक, मिलानेवाला।
 प्रघण-(सं. पुं.) अलिद, बरामदा, ताँबे का पात्र।
 प्रघत्त-(सं. पुं.) असुर, राक्षस, रावण की सेना का एक सेनानायक जिसको हनुमान् ने मारा था; (वि.) भक्षक, खानवाला।
 प्रघूर्ण, प्रघूर्ण-(सं. पुं.) अतिथि, पाहुन।
 प्रघोर-(सं. वि.) बहुत कठिन।
 प्रघंड-(सं. वि.) अधिक तीव्र, प्रवल, कठोर, भयंकर, असह्य, प्रतापी, पुष्ट, उग्र, बलवान्; (पुं.) शिव के एक गण-का नाम; -ता-(स्त्री.) तीव्रता; -त्व-(पुं.) प्रचंडता; -मूर्ति-(स्त्री.) उग्र मूर्ति, वरुण वृक्ष।
 प्रचंडा-(सं. वि. स्त्री.) अति कोपवती दुर्गा, चण्डी, सफेद ह्व।
 प्रचय-(सं. पुं.) समूह, झुण्ड, ढेर, वृद्धि, न्याय में एक प्रकार का संयोग।
 प्रचर-(सं. पुं.) मार्ग, गनन।
 प्रचरना-(हिं. क्रि. अ.) चलना, फौजना।
 प्रचरण-(सं. पुं.) विचरण, चलना-फिरना।
 प्रचरित-(सं. वि.) प्रचार किया हुआ।

प्रचल-(सं. वि.) प्रचलित ।
 प्रचलन-(सं. पुं.) प्रवतन, चलन ।
 प्रचला-(सं. स्त्री.) वह निद्रा जो कुछ लोगों को खड़े-खड़े या बैठे-बैठे आ जाती है, गिरगिट ।
 प्रचलित-(सं. वि.) चलता हुआ, जिसकी चलन हो, जारी, प्रसिद्ध ।
 प्रचाय-(सं. पुं.) राशि, ढेर, संचय, अधिकता ।
 प्रचायक-(सं. वि.) चयन करनेवाला ।
 प्रचार-(सं. पुं.) प्रचरण, चलन प्रसिद्धि, किसी वस्तु आदि को प्रसिद्ध करने का कार्य ।
 प्रचारक-(सं. पुं., वि.) प्रचार करनेवाला, फैलानेवाला ।
 प्रचारण-(सं. पुं.) प्रचार, चलन, रीति ।
 प्रचारना-(हिं. क्रि. स.) प्रचार करना, विस्तार करना, फैलाना, ललकारना ।
 प्रचारित-(सं. वि.) विस्तृत, फैलाया हुआ, प्रचार किया हुआ ।
 प्रचारी-(सं. वि.) प्रचार करनेवाला ।
 प्रचालित-(सं. वि.) प्रचार किया हुआ ।
 प्रचिकीर्षु-(सं. वि.) जो बदला लेना चाहता हो ।
 प्रचित-(सं. पुं.) दण्डक वृत्त का एक भेद ।
 प्रचुर-(सं. वि.) अनेक, प्रभूत, बहुत ; -ता-(स्त्री.) बहुलता, अधिकता ।
 प्रचेता-(हिं. पुं.) मुनिविशेष, वरुण, एक प्रजापति का नाम, राजा पृथु के प्रपौत्र का नाम ; (वि.) चतुर, बुद्धिमान् ।
 प्रचेय-(सं. वि.) चुनने या संग्रह करने योग्य ।
 प्रचोद-(सं. पुं.) प्रेरणा, उत्तेजना ।
 प्रचोदक-(सं. पुं., वि.) उत्तेजित करनेवाला ।
 प्रचोदन-(सं. पुं.) उत्तेजना, प्रेरणा, आज्ञा, नियम ।
 प्रचोदित-(सं. वि.) उत्तेजित किया हुआ ।
 प्रच्छक-(सं. पुं.) पूछनेवाला ।
 प्रच्छद-(सं. पुं.) लपेटन का वस्त्र, चोगा, कंबल ।
 प्रच्छना-(सं. स्त्री.) जिज्ञासा, पूछना ।
 प्रच्छन्न-(सं. वि.) आच्छादित, ढपा हुआ, गोपित, छिपा हुआ ।
 प्रच्छदन-(सं. पुं.) वमन, उलटी ।
 प्रच्छादन-(सं. पुं.) ओढ़ने का वस्त्र, चादर, आँख की पलक, छिपाना, ढपना ।
 प्रच्छादित-(सं. वि.) आच्छादित, ढपा हुआ ।
 प्रच्छाद्य-(सं. पुं.) घनी छाया ।
 प्रच्छालना, प्रच्छालना-(हिं. क्रि. स.) घीना ।
 प्रच्छल-(सं. वि.) निर्जल, जलशून्य ।
 प्रच्छेदन-(सं. पुं.) काटने की क्रिया ।
 प्रच्छेद्य-(सं. वि.) काटने योग्य ।
 प्रच्यवन-(सं. पु.) झरना, चूना !

प्रजंत-(हिं. अव्य.) देखें 'पर्यंत' ।
 प्रजन-(सं. पुं.) पशुओं के गर्भ-धारण करने का समय, सन्तान उत्पन्न करने का कार्य ।
 प्रजनन-(सं. पुं.) जन्म, धात्री-कर्म, दाई का काम, सन्तान उत्पन्न करने या कराने का काम ।
 प्रजनिका-(सं. स्त्री.) जन्म देनेवाली माता ।
 प्रजनिष्णु-(सं. वि.) जन्म देनेवाला ।
 प्रजय-(सं. पुं.) विजय, जीत ।
 प्रजरना-(हिं. क्रि. अ.) अच्छी तरह से जलना ।
 प्रजल्प, प्रजल्पन-(सं. पुं.) व्यर्थ या इधर-उधर की बातचीत ।
 प्रजल्पित-(सं. वि.) व्यक्त, प्रकट, कहा हुआ ।
 प्रजल्पिता-(सं. स्त्री.) वक्ता स्त्री ।
 प्रज्व-(सं. पुं.) तीव्र गति ।
 प्रजा-(सं. स्त्री.) सन्तति, सन्तान, प्रजनन, वह जनसमूह जो किसी राजा के अधीन या एक राज्य के अन्तर्गत रहता हो, राज्य के निवासी ।
 प्रजाकाम-(सं. वि.) पुत्र की इच्छा रखनेवाला ।
 प्रजाकार-(सं. पुं.) प्रजापति, ब्रह्मा ।
 प्रजागर-(सं. पुं.) रात भर का जागरण, नींद न आना, विष्णु, प्राण ; (वि.) रक्षा करनेवाला ।
 प्रजागरण-(सं. पुं.) नींद न आना ।
 प्रजागरा-(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम ।
 प्रजाघ्न-(सं. वि.) प्रजाका नाश करनेवाला ।
 प्रजातंतु-(सं. पुं.) सन्तान, वंश, कुल ।
 प्रजातंत्र-(सं. पुं.) वह शासन-पद्धति जिसमें कोई राजा नहीं होता, परन्तु जनसमूह समय-समय पर अपना शासक चुन लेते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन-व्यवस्था ।
 प्रजाता-(सं. स्त्री.) प्रसूता स्त्री, वह स्त्री जिसको बालक उत्पन्न हुआ हो ।
 प्रजादान-(सं. पुं.) सन्तान उत्पन्न करने का साधन ।
 प्रजाध्यक्ष-(सं. पुं.) प्रजापति, सूर्य ।
 प्रजानाथ-(सं. पुं.) लोकनाथ, राजा, ब्रह्मा, मनु ।
 प्रजापति-(सं. पुं.) सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, महीपाल, राजा, इन्द्र, जामाता, सूर्य, अग्नि, विश्वकर्मा, यज्ञ, घर का मालिक, तितली, एक तारा का नाम, साठ संवत्सरो में से पाँचवाँ संवत्सर, आठ प्रकार के विवाहों में से एक, पिता, बाप ।
 प्रजापाल-(सं. पुं.) प्रजा का पालन करनेवाला ।
 प्रजायिनी-(सं. स्त्री.) माता ।

प्रजारना-(हिं. क्रि. स.) अच्छी तरह से जलाना ।
 प्रजावती-(सं. स्त्री.) बड़े भाई की स्त्री, भौजाई, गर्भवती स्त्री ।
 प्रजासत्ता-(सं. स्त्री.) देखें 'प्रजातंत्र' ।
 प्रजाहित-(सं. पुं.) जल, पानी ; (वि.) प्रजा को भलाई करनेवाला ।
 प्रजिन-(सं. पुं.) वायु, हवा ।
 प्रजीवन-(सं. पुं.) जीविका ।
 प्रजुरना-(हिं. क्रि. अ.) प्रकाशित होना, जगमगाना ।
 प्रज्वलित-(सं. वि.) देखें 'प्रज्वलित' ।
 प्रज्वलित-(सं. वि.) प्रसक्त, लगा हुआ ।
 प्रज्ववर-(सं. पुं.) राजा, नृप ।
 प्रजोग-(हिं. पुं.) देखें 'प्रयोग' ।
 प्रज्वटिका-(सं. स्त्री.) प्राकृत छन्द का एक भेद जिसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं ।
 प्रज्ञ-(सं. पुं.) विद्वान्, पण्डित, जानकार ।
 प्रज्ञता-(सं. स्त्री.) विद्वत्ता, पाण्डित्य ।
 प्रज्ञप्ति-(सं. स्त्री.) संकेत, ज्ञान, सूचना ।
 प्रज्ञा-(सं. स्त्री.) ज्ञान, बुद्धि, सरस्वती ।
 प्रज्ञाचक्षु-(सं. पुं.) घृतराष्ट्र ; (वि.) जिसके पास प्रज्ञारूपी चक्षु हो, अन्वा ।
 प्रज्ञाद्य-(सं. वि.) बुद्धिमान्, विद्वान् ।
 प्रज्ञान-(सं. पुं.) बुद्धि, ज्ञान, चिह्न ।
 प्रज्ञापारमिता-(सं. स्त्री.) बौद्ध दशानानुसार दान, शील आदि गुणों में से एक ।
 प्रज्ञाप्त-(सं. वि.) सूचित ।
 प्रज्ञामय, प्रज्ञा-शील-(सं. वि.) विद्वान्, बुद्धिमान् ।
 प्रज्वलन-(सं. पुं.) अच्छी तरह से जलने की क्रिया ।
 प्रज्वलित-(सं. वि.) दहकता या धक्कता हुआ, अति स्वच्छ ।
 प्रज्वलिता-(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं ।
 प्रज्वालना-(हिं. क्रि. स.) जलाना, दहकाना ।
 प्रण-(हिं. पुं.) कोई काम करने के लिये किया हुआ अटल निश्चय, प्रतिज्ञा ।
 प्रणख-(सं. पुं.) नख का अगला भाग ।
 प्रणत-(सं. वि.) प्रणाम करता हुआ, वक्र, झुका हुआ, नम्र, विनीत ; (पुं.) प्रणाम करनेवाला, दास, सेवक, भक्त, उपासक ; -पाल-(पुं.) दीनों का रक्षक, दासों या भक्तों का पालन करनेवाला ।
 प्रणति-(सं. स्त्री.) विनय, नम्रता, प्रणाम, दण्डवत् ।
 प्रणम-(हिं. पुं.) देखें 'प्रणाम' ।
 प्रणमन-(सं. पुं.) दण्डवत् या प्रणाम

करना, झुकना ।
 प्रणम्य-(सं. वि.) प्रणाम करने योग्य, वन्दनीय ।
 प्रणय-(सं. पुं.) प्रीतियुक्त प्रार्थना, प्रेम, निर्वीण, मोक्ष, विश्वास, भरोसा, श्रद्धा, प्रार्थना, स्त्री का सन्तान उत्पन्न करना ।
 प्रणयन-(सं. पुं.) रचना, बनाना, करना, होम के समय अग्नि का एक संस्कार ।
 प्रणयिनी-(सं. स्त्री.) प्रेमिका, प्रियतमा, स्त्री, पत्नी ।
 प्रणयी-(सं. पुं.) प्रेम करनेवाला, पति, स्वामी ।
 प्रणव-(सं. पुं.) ओंकार, परमेश्वर, ओंकार मन्त्र जो अ, उ और म् की सन्धि से बना है, (इसमें अकार शब्द से विष्णु, उकार से महेश और मकार से ब्रह्मा का बोध होता है ।)
 प्रणवना-(हिं. कि. स.) प्रणाम या नमस्कार करना, श्रद्धा-भक्तिपूर्वक किसी के सामने झुकना ।
 प्रणस-(सं. वि.) बड़ी नाकवाला ।
 प्रणाद-(सं. पुं.) अति तीव्र ध्वनि ।
 प्रणास-(सं. पुं.) दण्डवत्, नमस्कार ।
 प्रणासी-(सं. वि.) प्रणाम करनेवाला ।
 प्रणायक-(सं. पुं.) सेनानायक, सरदार ।
 प्रणाल-(सं. पुं.) जल निकलने का मार्ग ।
 प्रणालिका-(सं. स्त्री.) परनाली, बन्दूक की नली ।
 प्रणाली-(सं. स्त्री.) पानी निकलने का मार्ग, नाली, परिपाटी, श्रेणी, रीति, पद्धति, चाल, ढंग, जल के दो बड़े मार्गों को मिलानेवाला संकीर्ण जल-मार्ग ।
 प्रणाश-(सं. पुं.) मृत्यु, नाश ।
 प्रणाशन-(सं. पुं.) ध्वंस, नाश ।
 प्रणाशी-(सं. वि.) नाश करनेवाला ।
 प्रणिवान-(सं. पुं.) ध्यान, मन की एकाग्रता, समाधि, भक्ति, प्रयत्न, अधिक उपासना, अर्पण, भावी जन्म के संबंध में की जानेवाली प्रार्थना ।
 प्रणिधि-(सं. पुं.) प्रार्थना, विनती, पूजा ।
 प्रणिनाद-(सं. पुं.) वज्र के समान गरजना ।
 प्रणिपतन-(सं. पुं.) प्रणाम, दण्डवत् ।
 प्रणिपात-(हिं. पुं.) प्रणाम ।
 प्रणिहित-(सं. वि.) रखा हुआ, मिलाया हुआ ।
 प्रणीत-(सं. वि.) बनाया हुआ, निर्मित, फेंका हुआ, सुघारा हुआ, प्रवेश किया हुआ, भेजा हुआ; (पुं.) मन्त्र से संस्कार किया हुआ जल, अग्नि ।
 प्रणीता-(सं. स्त्री.) मन्त्रोच्चारसहित छानकर रखा हुआ जल, वह पात्र

जिसमें ऐसा जल रखा जाता है ।
 प्रणुत्-(सं. वि.) स्तुति किया हुआ, प्रशंसा किया हुआ ।
 प्रणोजन-(सं. पुं.) घोना स्वच्छ करना ।
 प्रणोता-(सं. पुं.) रचयिता, बनानेवाला ।
 प्रणोदित-(सं. वि.) प्रेरित, नियोजित ।
 प्रतच्छ-(हिं. वि.) देखें 'प्रत्यक्ष' ।
 प्रतत्-(सं. वि.) विस्तृत, लंबा-चौड़ा ।
 प्रतति-(सं. स्त्री.) विस्तार, फैलाव ।
 प्रतन-(सं. वि.) पुरातन, पुराना ।
 प्रतनु-(सं. वि.) बहुत छोटा, बहुत महीन, क्षीण ।
 प्रतपन-(सं. पुं.) एक नरक का नाम ।
 प्रतप्त-(सं. वि.) तापित, तपा हुआ ।
 प्रतमक-(सं. पुं.) एक प्रकार का श्वास-रोग ।
 प्रतर-(सं. पुं.) पार करना ।
 प्रतर्क-(सं. पुं.) संशय, सन्देह, वादविवाद ।
 प्रतदन-(सं. पुं.) ताड़ना; (पुं.) काशी के एक प्राचीन राजा दिवोदास का पुत्र, एक ऋषि का नाम, विष्णु; (वि.) ताड़नेवाला ।
 प्रतल-(सं. पुं.) उन्मुक्त हथेली, पाताल के सातवें भाग का नाम ।
 प्रतान-(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम, एक प्रकार का वायुरोग जिसमें वारंवार मूर्च्छा आती है, बेल, लता, रेशा; (वि.) विस्तृत, लंबा-चौड़ा, रेशेदार ।
 प्रताप-(सं. पुं.) पौरुष, वीरता, बल, पराक्रम, तेज, ताप, गरमी, ऐसा प्रभाव जिसके कारण उपद्रवी या विरोधी शान्त रहें, मदार का पौधा ।
 प्रतापन-(सं. पुं.) पीड़न, कष्ट पहुँचाना, विष्णु, एक नरक का नाम; (वि.) कष्ट देनेवाला ।
 प्रतापवान्-(हिं. वि.) प्रतापी ।
 प्रतापत्-(सं. पुं.) उत्तम तपस्वी, सफेद मदार ।
 प्रतापी-(हिं. वि.) प्रतापवाला, दुःखदायी ।
 प्रतारक-(सं. पुं., वि.) वंचक, ठग, घूर्त ।
 प्रतारण-(सं. पुं.) वंचन, घूर्तता, ठगी ।
 प्रतारणा-(सं. स्त्री.) प्रतारण ।
 प्रतारणीय-(सं. वि.) ठगने योग्य ।
 प्रतारित-(सं. वि.) वंचित, जो ठगा गया हो ।
 प्रतित्वा-(हिं. स्त्री.) प्रत्यंचा, धनुष की डोरी, ज्या, चित्ला ।
 प्रति-(सं. उप.) एक उपसर्ग जो शब्दों के आरंभ में-प्रतिनिधि, प्रतिकल, विपरीत, प्रत्येक, दुबारा, ऊपर, समीप, लक्षण, विरोध, अल्पमात्रा, निश्चय, अंश, निन्दा, स्वभाव, व्याप्ति आदि अर्थों का बोध करने के लिये जोड़ा जाता है; (अव्य.)

सामने, ओर, संबंध में, विषय में; (स्त्री.) एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं में से एक वस्तु ।
 प्रतिकंठ-(सं. अव्य.) कण्ठ के समीप ।
 प्रतिकर्तव्य-(सं. वि.) बदला चुकाने योग्य ।
 प्रतिकर्म-(सं. पुं.) किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित कर्म, वेश, भेस, बदला, शरीर का सँवारना ।
 प्रतिकांक्षी-(सं. वि.) आकांक्षी ।
 प्रतिकामिनी-(सं. स्त्री.) सपत्नी, सौत ।
 प्रतिकाय-(सं. पुं.) प्रतिमा, प्रतिरूप, चित्र ।
 प्रतिकार-(सं. पुं.) बदला, किसी की चाल का उचित उपाय ।
 प्रतिकारक, प्रतिकारी-(सं. वि.) बदला चुकानेवाला ।
 प्रतिकान्त-(सं. वि.) तुल्य, सदृश, समान ।
 प्रतिकुंचित-(सं. वि.) बक, टेढ़ा किया हुआ ।
 प्रतिकूप-(सं. पुं.) परिखा, त्वाई ।
 प्रतिकूल-(सं. वि.) जो अनुकूल न हो, उलटा, विपरीत, विरुद्ध; (पुं.) प्रतिरोध; -ता-(स्त्री.) प्रतिकूल आचरण; -वचन-(पुं.) विरुद्ध वाक्य, खंडन ।
 प्रतिकृत-(सं. वि.) जिसका बदला लिया या दिया चुका हो ।
 प्रतिकृति-(सं. स्त्री.) प्रतिमूर्ति, प्रतिमा, चित्र, प्रतिकार, बदला, प्रतिविम्ब, छाया ।
 प्रतिकृत्य-(सं. वि.) प्रतिकार करने योग्य ।
 प्रतिक्रम-(सं. पुं.) प्रतिकूल या उलटा क्रम ।
 प्रतिक्रिया-(सं. स्त्री.) प्रतिकार, बदला, संस्कार, सजावट, शमन या निवारण का उपाय, किसी क्रिया की परिणामी क्रिया ।
 प्रतिकृष्ट-(सं. वि.) दरिद्र, नीरस ।
 प्रतिकृष्ण-(सं. अव्य.) वारंवार, फिर-फिर ।
 प्रतिकृषित-(सं. वि.) तिरस्कार किया हुआ, रोका हुआ, बुलाया हुआ, भेजा हुआ, फेंका हुआ ।
 प्रतिक्लेष-(सं. पुं.) फेंकना, रोकना, तिरस्कार ।
 प्रतिक्रियाति-(सं. स्त्री.) विख्याति, प्रसिद्धि ।
 प्रतिगत-(सं. वि.) जो लौट आया हो ।
 प्रतिगिरि-(सं. पुं.) छोटा पहाड़ ।
 प्रतिगृह-(सं. अव्य.) घर-घर में ।
 प्रतिगृहीत-(सं. वि.) ग्रहण किया हुआ, लिया हुआ ।
 प्रतिगृहीता-(सं. स्त्री.) धर्मपत्नी, वह स्त्री जिसका पाणिग्रहण किया गया हो ।
 प्रतिगृह्य-(सं. वि.) ग्रहण करने योग्य ।
 प्रतिगृह-(सं. अव्य.) घर-घर में ।
 प्रतिग्या-(हिं. स्त्री.) देखें 'प्रतिज्ञा' ।

प्रतिग्रह—(सं. पुं.) ग्रहण, स्वीकार, सेना का पिछला भाग, ब्राह्मण का विधिपूर्वक दिये हुए दान को लेना, प्रतिकूल ग्रह, विरोध करना, पाणिग्रहण, अभ्यर्थना, स्वागत, अधिकार में लाना, पकड़ना, किसी के अभियोग चलाने पर उस पर बदले में अभियोग चलाना, ग्रहण ।

प्रतिग्रहण—(सं. पुं.) विधिपूर्वक दिया हुआ दान लेना, प्रतिग्रह करना ।

प्रतिग्रही, प्रतिग्रहीता—(हि. वि., पुं.) प्रतिग्रह या दान लेनेवाला पति ।

प्रतिग्राह—(सं.पुं.) प्रतिग्रह, ग्रहण करना ।
प्रतिग्राहक, प्रतिग्राही—(सं. पुं., वि.) देखें 'प्रतिग्रही' ।

प्रतिग्राह्य—(सं. वि.) ग्रहण करने योग्य ।
प्रतिघ—(सं. पुं.) क्रोध, मूर्च्छा, प्रतिकूल; (वि.) रुकावट डालनेवाला ।

प्रतिघात—(सं. पुं.) प्रतिबन्ध, बाधा, निराशा, वह आघात जो आघात लगने या करने पर प्रतिक्रियास्वरूप उत्पन्न हो, टक्कर, मारण, मारना ।

प्रतिघातक—(सं.वि.) प्रतिघात करनेवाला ।

प्रतिघातन—(सं. पुं.) हत्या, बाधा, रुकावट ।

प्रतिघाती—(सं.वि.) प्रतिघात करनेवाला, विरोध करनेवाला; (पुं.) शत्रु, वरी ।
प्रतिचितन—(सं. पुं.) पुनर्विचार, फिर से सोचना ।

प्रतिच्छंद—(सं.पुं.) प्रतिकृति, अनुरोध ।

प्रतिच्छा—(हि. स्त्री.) देखें 'प्रतीक्षा' ।

प्रतिच्छाया—(सं.स्त्री.) प्रतिमूर्ति, सादृश्य, चित्र, प्रतिबिम्ब, परछाईं ।

प्रतिच्छद—(सं. पुं.) प्रतिबन्ध, रुकावट ।

प्रतिच्छाई—(हि. स्त्री.) देखें 'प्रतिच्छाया' ।

प्रतिच्छाया—(हि.स्त्री.) प्रतिबिम्ब, परछाई ।

प्रतिच्छाही—(हि. स्त्री.) देखें 'प्रतिच्छाया' ।

प्रतिजंघा—(सं.स्त्री.) जांघ का अगला भाग ।

प्रतिजल्प—(सं. पुं.) सम्मति देना ।

प्रतिजागर—(सं. पुं.) बड़ी सावधानी से पहरा देना ।

प्रतिजिह्वा—(सं.स्त्री.) गले के भीतर की घांटी, कौआ ।

प्रतिजीवन—(सं. पुं.) फिर से जी जाना ।

प्रतिज्ञांतर—(सं. पुं.) तर्क में निग्रह-स्थान का एक भेद ।

प्रतिज्ञा—(सं. स्त्री.) कोई काम करने के लिये दृढ़ निश्चय, न्याय के पाँच अवयवों में से पहला अवयव, शपथ, सौगन्ध, अभियोग ।

प्रतिज्ञात—(सं. वि.) अंगीकृत, स्वीकार किया हुआ जिसकी प्रतिज्ञा की गई हो ।

प्रतिज्ञा-पत्र—(सं. पुं.) वह पत्र जिस पर कोई प्रतिज्ञा लिखी हो ।

प्रतिज्ञा-विरोध—(सं. पुं.) न्याय में वह स्थिति जब प्रतिज्ञा और हेतु-दोनों में विरोध होता है ।

प्रतिज्ञा-हानि—(सं. स्त्री.) न्याय में निग्रह का एक भेद ।

प्रतिज्ञेय—(सं. वि.) प्रतिज्ञा करने योग्य ।

प्रतिताल—(सं. पुं.) संगीत में ताल का एक भेद ।

प्रतितूणी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का वात-रोग ।

प्रतिदत्त—(सं.वि.) लौटाया हुआ, बदले में दिया हुआ ।

प्रतिदान—(सं. पुं.) विनिमय, बदला, ली हुई या रखी हुई वस्तु को लौटाना ।

प्रतिदारण—(सं. पुं.) युद्ध, लड़ाई ।

प्रतिदिन—(सं.पुं, अव्य.) प्रत्यह, हर रोज ।

प्रतिदिवन्—(सं. पुं., अव्य.) प्रतिदिन, सूर्य ।

प्रतिदिवस—(सं. अव्य.) देखें 'प्रतिदिन' ।

प्रतिदेय—(सं. पुं.) मोल ली हुई वस्तु को फेर देना ।

प्रतिद्वंद्व—(सं. पुं.) बराबरी के योद्धाओं की लड़ाई ।

प्रतिद्वंद्वी—(सं. पुं.) शत्रु, बराबरी का लड़नेवाला ।

प्रतिभावन—(सं. पुं.) पीछे से आक्रमण ।

प्रतिध्वनि—(सं. पुं.) प्रतिशब्द, वह शब्द जो अपनी उत्पत्ति के उपरांत कुछ क्षणों तक गूंजता रहता है, दूसरे के भावों या विचारों का दोहराया जाना ।

प्रतिध्वनित—(सं. वि.) गूंजता हुआ ।

प्रतिनंदन—(हि. पुं.) आशीर्वादपूर्वक अभिनन्दन करना ।

प्रतिनव—(सं. वि.) नूतन, नया ।

प्रतिना—(हि. स्त्री.) देखें 'पूतना' ।

प्रतिनाड़ी—(सं.स्त्री.) उपनाड़ी, छोटी नाड़ी ।

प्रतिनाद—(सं. पुं.) प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि ।

प्रतिनायक—(सं. पुं.) नाटकों, महाकाव्यों आदि में नायक का प्रतिद्वंद्वी पात्र ।

प्रतिनाह—(सं. पुं.) श्वास बन्द होने का एक रोग ।

प्रतिनिधि—(सं. पुं.) प्रतिमा, प्रतिमूर्ति, किसी दूसरे की ओर से कोई काम करने के लिये नियुक्त या निर्वाचित सदस्य ।

प्रतिनिधित्व—(सं. पुं.) प्रतिनिधि होने का कार्य या भाव ।

प्रतिनिधम—(सं. पुं.) व्यवस्था, प्रत्येक के लिये सामान्य नियम ।

प्रतिनिजित—(सं.वि.) पराजित, हराया हुआ ।

प्रतिनिर्देश—(सं. पुं.) पुनः उल्लेख या निर्देश ।

प्रतिनिर्यातन—(सं. पुं.) अपकार के बदले में किया हुआ अपकार ।

प्रतिनिर्वातित—(सं.वि.) प्रत्यागत, लौटाया हुआ
प्रतिप—(सं. पुं.) राजा शन्तनु के पिता का नाम ।

प्रतिपक्ष—(सं.पुं.) प्रतिवादी, शत्रु, विरुद्ध पक्ष; -ता—(स्त्री.) विपक्षता, विरोध ।

प्रतिपक्षी—(सं.पुं.) विपक्षी, विरोधी, शत्रु ।

प्रतिपच्छ—(हि. पुं.) देखें 'प्रतिपक्ष' ।

प्रतिपच्छी—(हि. पुं.) देखें 'प्रतिपक्षी' ।

प्रतिपद्—(हि. स्त्री.) देखें 'प्रतिपद्' ।

प्रतिपत्ति—(सं. स्त्री.) प्राप्ति, ज्ञान, अनुमान, निरूपण, प्रतिपादन, निश्चय, दृढ़-विचार, परिणाम, आदर, सत्कार, गौरव, स्वीकृति, प्रतिष्ठा, चित्त में स्थिर होना, कार्य में परिणत होना; -कर्म—(पुं.) श्राद्ध आदि में सब से अन्त में किया जानेवाला कर्म ।

प्रतिपद—(सं. अव्य.) पग-पग पर, स्थान-स्थान पर ।

प्रतिपदा—(सं.स्त्री.) किसी पक्ष की पहली तिथि, परिवा ।

प्रतिपद्—(सं. स्त्री.) श्रेणी, पंक्ति, मार्ग, आरंभ, बुद्धि, पक्ष की पहली तिथि ।

प्रतिपन्न—(सं. वि.) जाना हुआ, स्वीकार किया हुआ, परिपूर्ण, निश्चित, शरणागत, प्रतिष्ठित, प्राप्त, जो मिला हो, अभियुक्त, गृहीत, प्रमाणित ।

प्रतिपात्र—(सं. अव्य.) प्रत्येक मनुष्य पर ।

प्रतिपादक—(सं. पुं., वि.) निर्वाह करनेवाला, प्रतिपादन करनेवाला ।

प्रतिपादन—(सं. पुं.) दान, उत्पत्ति, पुरस्कार, प्रमाण, प्रतिपत्ति, अच्छी तरह समझाना, निरूपण ।

प्रतिपादनीय—(सं.वि.) प्रतिपादन के योग्य ।

प्रतिपादित—(सं. वि.) दिया हुआ, स्थिर या निश्चित किया हुआ, घोषा या सुधारा हुआ, निरूपित ।

प्रतिपाद्य—(सं. वि.) निरूपण करने योग्य, देने योग्य, प्रतिपादनीय ।

प्रतिपाय—(सं. पुं.) किसी पापी के प्रति किया जानेवाला कठोर व्यवहार ।

प्रतिपार्—(हि. पुं.) देखें 'प्रतिपाल' ।

प्रतिपाल, प्रतिपालक—(सं. वि.) रक्षक, पोषक; (पुं.) राजा, पालन-पोषण करनेवाला ।

प्रतिपालन—(सं. पुं.) पालन-पोषण करने की क्रिया या भाव, निर्वाह, रक्षा ।

प्रतिपालना—(हिं. क्रि. स.) रक्षा करना, पालन-पोषण करना ।
 प्रतिपालनीय—(सं. वि.) प्रतिपालन, विरोध करने योग्य ।
 प्रतिपालित—(सं. वि.) प्रतिपालन किया हुआ ।
 प्रतिपुरुष—(सं. अव्य.) प्रत्येक पुरुष पर; (पुं.) प्रतिनिधि, वह पुतला जिसको प्राचीन काल में चोर लोग प्रवेश करने के पहले घर में फेंकते थे ।
 प्रतिपुस्तक—(सं. पुं.) किसी ग्रन्थ या पुस्तक की प्रतिलिपि ।
 प्रतिपूजन—(सं. पुं.) दूसरे को प्रणाम आदि करते हुए देखकर तदनुसार स्वयं प्रणाम करना, अभिवादन ।
 प्रतिपोषक—(सं. पुं.) समर्थक ।
 प्रतिप्रहार—(सं. पुं.) मार पर मार, प्रहार के बदले प्रहार ।
 प्रतिप्राकार—(सं.पुं.) गढ़ के बाहर की भीता ।
 प्रतिप्रिय—(सं. पुं.) किसी उपकार के बदले में किया हुआ उपकार ।
 प्रतिप्लवन—(सं. पुं.) पीछे की ओर कूदना ।
 प्रतिफल—(सं. पुं.) प्रतिविम्ब, छाया, प्रत्युपकार, परिणाम, बदला ।
 प्रतिफलित—(सं. वि.) प्रतिविम्बित, प्रतिकृत ।
 प्रतिबंध—(सं. पुं.) बाधा, विघ्न, रुकावट, बंधन, अवरोध ।
 प्रतिबंधक—(सं.पुं.वि.) बाधा डालनेवाला, रोकनेवाला ।
 प्रतिबंधकता—(सं. स्त्री.) विघ्न, रुकावट, अड़चन ।
 प्रतिबंध्य—(सं. पुं.) जो बन्धु के समान हो ।
 प्रतिबद्ध—(सं. वि.) जिसमें किसी प्रकार का प्रतिबन्ध या रुकावट हो ।
 प्रतिबल—(सं. वि.) समान शक्तिवाला ।
 प्रतिबला—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का पौधा ।
 प्रतिबाधक—(सं.पुं.वि.) बाधा डालनेवाला, कष्ट पहुँचानेवाला ।
 प्रतिबाहु—(सं. पुं.) बाँह का अगला भाग ।
 प्रतिबिम्ब—(सं.पुं.) मूर्ति, परछाई, दर्पण, चित्र ।
 प्रतिबिम्बक—(सं. वि.) परछाई के समान साथ-साथ चलनेवाला ।
 प्रतिबिम्बना—(हिं. क्रि. अ.) प्रतिबिम्बित होना ।
 प्रतिबिम्ब-वाद—(सं. पुं.) वेदान्त का वह सिद्धान्त जिनके अनुसार जीव ईश्वर का प्रतिविम्ब माना जाता है ।
 प्रतिबिम्बित—(सं. वि.) जिसकी परछाई पड़ती हो, जो परछाई पड़ने के कारण दिखाई पड़ता हो ।
 प्रतिबीज—(सं. वि.) (बीज) जिसकी उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई हो ।

प्रतिबुद्ध—(सं. वि.) जागता हुआ, ज्ञान, जो जाना गया हो, जिसकी-उन्नति हुई हो ।
 प्रतिबुद्धि—(सं. स्त्री.) विपरीत बुद्धि, उलटी समझ ।
 प्रतिबोध—(सं. पुं.) जागरण, ज्ञान ।
 प्रतिबोधक—(सं. पुं.) शिक्षक, प्रतिबोध करनेवाला, ज्ञान उत्पन्न करनेवाला, जगानेवाला ।
 प्रतिबोधन—(सं. पुं.) ज्ञान उत्पन्न करना, जागरण ।
 प्रतिभट—(सं. पुं.) शत्रु, वैरी, बराबरी का योद्धा; -ता—(स्त्री.) शत्रुता, वैर ।
 प्रतिभा—(सं. स्त्री.) बुद्धि, दीप्ति, चमक, समानता, असाधारण बुद्धिमत्ता ।
 प्रतिभाग—(सं. पुं.) प्रत्येक भाग ।
 प्रतिभात—(हिं. वि.) चमकता हुआ ।
 प्रतिभानु—(सं. पुं.) सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम ।
 प्रतिभामुख—(सं. वि.) प्रतिभाशाली, प्रगल्भ ।
 प्रतिभावत्—(सं. वि.) प्रतिभाशाली, चमकदार ।
 प्रतिभावान्—(हिं. वि.) प्रतिभाशाली ।
 प्रतिभाशाली—(सं. वि.) जिसमें प्रतिभा हो ।
 प्रतिभाषा—(सं. स्त्री.) प्रत्युत्तर, वादी का कथन ।
 प्रतिभास—(सं. पुं.) प्रकाश, चमक, आकृति, भ्रम ।
 प्रतिभासंपन्न—(सं. वि.) प्रतिभाशाली ।
 प्रतिभाहसि—(सं. पुं.) बृद्धिनाश ।
 प्रतिभेद—(सं. पुं.) अन्तर, भेद, विभाग ।
 प्रतिभेदन—(सं.पुं.) विभाग करना, खोलना ।
 प्रतिभोग—(सं. पुं.) उपभोग ।
 प्रतिभंडक—(सं. पुं.) एक राग का नाम ।
 प्रतिभंडल—(सं.पुं.) सूर्य आदि चमकते हुए ग्रहों का मण्डल ।
 प्रतिभंत्रण—(सं. पुं.) उत्तर देना ।
 प्रतिभ—(सं. वि.) समान, सद्ग ।
 प्रतिभल्ल—(सं. पुं.) जोड़ का योद्धा ।
 प्रतिभा—(सं. स्त्री.) अनुकृति, किसी वास्तविक या कल्पित आकृति के अनुरूप बनाई हुई मूर्ति या चित्र, प्रतिविम्ब, छाया; घातु, पत्थर, मिट्टी आदि की बनाई हुई किसी देवता की मूर्ति, वाट, बटखरा, वह अलंकार जिसमें किसी मनुष्य, पदार्थ या व्यक्ति की स्थापना का वर्णन किया जाता है ।
 प्रतिमान—(सं. पुं.) प्रतिविम्ब, परछाई, हाथी के निकले हुए दाँतों के बीच का स्थान, समानता, बराबरी, हाथी का ललाट, दृष्टान्त, उदाहरण, प्रतिनिधि ।

प्रतिमाया—(सं. स्त्री.) माया का प्रतिरूप ।
 प्रतिभाला—(सं. स्त्री.) अन्त्याक्षरी पढ़ना ।
 प्रतिभामस—(सं. अव्य.) हर महीने में ।
 प्रतिमुक्त—(सं.पुं.) परित्यक्त, छोड़ा हुआ, अलग किया हुआ, फेंका हुआ ।
 प्रतिमुख—(सं. पुं.) नाटक की पाँच अंग-सन्धियों में से एक ।
 प्रतिमुद्रा—(सं. स्त्री.) नामांकित मुद्रा की छाप ।
 प्रतिमुहूर्त—(सं. अव्य.) निरन्तर ।
 प्रतिमूर्ति—(सं. स्त्री.) देवतादि की मूर्ति ।
 प्रतिमोक्षण—(सं. पुं.) मोक्ष की प्राप्ति ।
 प्रतिनोचन—(सं.पुं.) बन्धन से मुक्त करना ।
 प्रतिपत्न—(सं. पुं.) लालच, रचना, संस्कार ।
 प्रतिपान—(सं. पुं.) लौटना, वापस आना ।
 प्रतिपुद्ध—(सं. पुं.) बराबरी की लड़ाई ।
 प्रतियोग—(सं. पुं.) शत्रुता, विरुद्ध तत्त्वों का संयोग, फिर से किया जानेवाला उद्योग, किसी कारण के परिणाम को नष्ट करनेवाली युक्ति ।
 प्रतियोगिता—(सं. स्त्री.) प्रतिद्वन्द्विता, विरोध, शत्रुता, होड़ ।
 प्रतियोगी—(हिं. वि.) विरोधी, वैरी, सहायक, साथी, बराबरवाला ।
 प्रतियोद्धा—(हिं.पुं.) शत्रु, वैरी, लड़नेवाला ।
 प्रतिरक्षण—(सं. पुं.) रक्षा ।
 प्रतिरथ—(सं. पुं.) बराबरी का लड़नेवाला ।
 प्रतिराज—(सं. पुं.) विपक्षी राजा ।
 प्रतिरात्र—(सं. अव्य.) प्रत्येक रात को ।
 प्रतिरुद्ध—(सं. वि.) अवरुद्ध, रुका हुआ ।
 प्रतिरूप—(सं. पुं.) प्रतिमा, मूर्ति, चित्र; (वि.) अनुरूप, समान ।
 प्रतिरूपक—(सं. पुं.) प्रतिविम्ब ।
 प्रतिरोद्धा—(हिं. वि.) विरोधी, बाधा डालनेवाला ।
 प्रतिरोध—(सं. पुं.) विरोध, तिरस्कार, प्रतिविम्ब ।
 प्रतिरोधक—(सं. वि., पुं.) रोकने या बाधा डालनेवाला ।
 प्रतिरोधन—(सं. पुं.) प्रतिरोध करने की क्रिया या भाव ।
 प्रतिरोधित—(सं. वि.) निवारित, रोका हुआ ।
 प्रतिरोधी—(सं. वि., पुं.) प्रतिरोधक ।
 प्रतिरंभ—(सं. पुं.) लाभ, प्राप्ति ।
 प्रतिरक्षण—(सं. पुं.) चिह्न ।
 प्रतिरन्ध्र—(सं. वि.) प्राप्त करने योग्य ।
 प्रतिराम—(सं.पुं.) लाभ, पुनः प्राप्त करना ।
 प्रतिलिपि—(सं. स्त्री.) किसी लेख का अनुकरण, नकल ।
 प्रतिलोम—(सं. वि.) विपरीत प्रतिकूल,

उलटा, जो सीधा न गया हो, जो नीचे से ऊपर गया हो; -ज-(पुं.) नीच वर्ण के पुरुष तथा उच्च वर्ण की स्त्री से उत्पन्न सन्तान; -विवाह-(पु.) वह विवाह जिसमें वर नीच वर्ण का तथा कन्या उच्च वर्ण की हो।

प्रतिवक्तव्य-(सं. वि.) उत्तर देने योग्य।

प्रतिवचन-(सं.पुं.) उत्तर, विरुद्ध वाक्य।

प्रतिवत्सर-(सं. अव्य.) हर साल।

प्रतिवर्तन-(सं.पुं.) लौट आना।

प्रतिवसथ-(सं.पुं.) ग्राम, गाँव।

प्रतिवस्तु-(सं.स्त्री.) तुल्य या सदृश पदार्थ।

प्रतिवस्तूपमा-(सं. स्त्री.) वह अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान के साधारण धर्मों का वर्णन पृथक्-पृथक् वाक्यों में किया जाता है।

प्रतिवहन-(सं. पुं.) विरुद्ध दिशा में जाना।

प्रतिवाक्य-(सं.पुं.) प्रतिध्वनि, प्रत्युत्तर।

प्रतिवाणि-(सं. स्त्री.) प्रतिकूल वाक्य, प्रतिध्वनि।

प्रतिवात-(सं.पुं.) वह दिशा जिस ओर से वायु बहती हो।

प्रतिवाद-(सं.पुं.) किसी के वाक्य या सिद्धान्त को खण्डन अथवा उसका विरोध करने के लिये कहा हुआ वाक्य, विवाद, विरोध, खण्डन, उत्तर।

प्रतिवाचक-(सं.पुं.) प्रतिवाद करनेवाला।
प्रतिवादिता-(सं. स्त्री.) प्रतिवादी होने का भाव।

प्रतिवादी-(सं.वि.,पुं.) प्रतिवाद या खण्डन करनेवाला, वह जो किसी बात में तर्क करे, वादी का उत्तर देनेवाला।

प्रतिवारण-(सं.पुं.) निवारण, रोकना, मना करना, मस्त हाथी।

प्रतिवाय-(सं. वि.) निवारण करने योग्य।

प्रतिवास-(सं.पुं.) सुगन्ध, पड़ोस।

प्रतिवासिता-(सं.स्त्री.) पड़ोस का निवास।

प्रतिवासी-(सं. वि.,पुं.) पड़ोस में रहनेवाला, पड़ोसी।

प्रतिविधान-(हिं.पुं.) प्रतिकार।

प्रतिविधि-(सं.पुं.) प्रतिकार।

प्रतिविधेय-(सं.वि.) प्रतिकार करने योग्य।

प्रतिविभाग-(सं.पुं.) उप-विभाग।

प्रतिविरक्ति-(सं. स्त्री.) वैराग्य, विराग।

प्रतिविरुद्ध-(सं. वि.) विरुद्ध आचरण करनेवाला।

प्रतिविशिष्ट-(सं. वि.) उत्कृष्ट।

प्रतिविष-(सं.पुं.) विष का प्रभाव नष्ट करनेवाली दवा।

प्रतिविषा-(सं.स्त्री.) अतिविषा; अतीस।

प्रतवीक्षणीय-(सं. वि.) देखने योग्य।

प्रतिवीर-(सं.पुं.) वरावरी का योद्धा।

प्रतिवेश-(सं.पुं.) पड़ोसी का घर, पड़ोस।

प्रतिवेशी-(सं. वि.) प्रतिवासी, पड़ोस में रहनेवाला।

प्रतिवेशम-(सं.पुं.) पड़ोसी का घर।

प्रतिवेश्य-(सं.पुं.) पड़ोस में रहनेवाला।

प्रतिशंका-(सं. स्त्री.) वरावर बनी रहनेवाली शंका।

प्रतिशब्द-(सं.पुं.) प्रतिध्वनि, गूँज।

प्रतिशम-(सं.पुं.) नाश, मुक्ति।

प्रतिशयन-(सं.पुं.) घरना देना।

प्रतिशयित-(सं.वि.पुं.) घरना देनेवाला।

प्रतिहाप-(सं.पुं.) बदले में शाप देना।

प्रतिशिष्य-(सं.पुं.) चेले (शिष्य) का चेल।

प्रतिशिष्ट-(सं.वि.) मजा हुआ, लौटा हुआ।

प्रतिशीघ्रन-(सं.पुं.) ठहरने का स्थान।

प्रतिशीघ्र-(हिं.पुं.) बदला चुकाने के लिये किया जानेवाला काम, प्रतिकार।

प्रतिश्याय-(सं.पुं.) जुकाम का रोग।

प्रतिश्रम-(सं.पुं.) परिश्रम।

प्रतिश्रय-(सं.पुं.) यज्ञशाला, समा-स्थान, निवास।

प्रतिश्रव-(सं.पुं.) अंगीकार, प्रतिज्ञा।

प्रतिश्रुत-(सं. वि.) स्वीकार किया हुआ, प्रतिज्ञात।

प्रतिश्रुति-(सं. स्त्री.) अंगीकार, प्रतिध्वनि, गूँज, प्रतिज्ञा।

प्रतिश्रोता-(सं.पुं.) अनुमति या स्वीकृति देनेवाला।

प्रतिषिद्ध-(सं. वि.) निषेध किया हुआ।

प्रतिषेध-(सं.पुं.) खण्डन, निषेध, वह अर्थालंकार जिसमें किसी प्रसिद्ध समानता का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जिससे इसका कोई विशेष अर्थ निकले।

प्रतिषेधक-(सं. वि.) मना करनेवाला, रोकनेवाला।

प्रतिषेधन-(सं.पुं.) प्रतिषेध, निषेध।

प्रतिषेधनीय-(सं. वि.) मना करने योग्य।

प्रतिषेधोपमा-(सं. स्त्री.) उपमा अलंकार का वह भेद जहाँ उपमान और उपमेय की समानता प्रतिषेध द्वारा अलंकारिक रूप से वर्णन की जाती है।

प्रतिषिद्ध-भ-(सं.पुं.) प्रतिबन्ध, रुकावट।

प्रतिष्ठा-(सं. स्त्री.) मान, मर्यादा, गौरव, आदर, सत्कार, व्रत का उद्यापन, देवता की प्रतिमा का स्थापन, स्थान, आश्रय, चार वर्णों का एक वृत्त, स्थिति, ठहराव, प्रसिद्धि, यज्ञ, कीर्ति

एक प्रकार का छन्द।

प्रतिष्ठान-(सं.पुं.) पुरुरवा की राज-वानी, प्रतिष्ठित करने की क्रिया, उपाधि, पदवी, प्रसिद्धि, देवमूर्ति की स्थापना, स्थापित करने की क्रिया, वह कृत्य जो व्रतादि के समाप्त होने पर किया जाता है; -पुर-(पुं.) चन्द्रवंश के पहले राजा पुरुरवा की राजधानी।

प्रतिष्ठापन-(सं.पुं.) किसी देवमूर्ति की स्थापना, पदासीन करना।

प्रतिष्ठापत्र-(सं.पुं.) सम्मानपत्र, वह पत्र जो किसी की प्रतिष्ठा करने के लिये दिया जाता है, मान-पत्र।

प्रतिष्ठावान्-(हिं. वि.) प्रतिष्ठावाला।

प्रतिष्ठित-(सं.वि.) प्रतिष्ठा युक्त, आदरणीय, प्रशंसित, विख्यात, जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो; (पुं.) विष्णु।

प्रतिस्फुरन-(सं.पुं.) संचार, प्रतिच्छाया।

प्रतिस्फुरा-(सं.स्त्री.) सांख्य के अनुसार ज्ञान का एक भेद, चेतना।

प्रतिस्फुर-(सं.पुं.) प्रलय-काल।

प्रतिस्वान-(सं.पुं.) अनुसंधान, स्तुति।

प्रतिस्वानिक-(सं.पुं.) मागध, स्तुति-पाठक, खोजनेवाला।

प्रतिस्वधि-(सं.पुं.) अनुसन्धान, पुनर्जन्म।

प्रतिस्वत्सर-(सं. अव्य.) हर साल, प्रतिवर्ष।

प्रतिस्वहृत-(सं. वि.) संकुचित, सिकुड़ा हुआ।

प्रतिस्वृद्ध-(सं.वि.) सब को समान भाव से देखनेवाला।

प्रतिस्वम-(सं. वि.) जो देखने में समान न हो।

प्रतिस्वर-(सं.पुं.) जादू का मन्त्र, एक प्रकार का हाथ में पहनने का गहना, प्रातःकाल, सेना का पिछला भाग, भृत्य, नौकर, प्रभात, माला।

प्रतिस्वर्ग-(सं.पुं.) मनु आदि की सृष्टि के बाद दक्ष आदि की सृष्टि।

प्रतिस्वव्य-(सं. वि.) विपरीत, प्रतिकूल।

प्रतिस्वामंत-(सं.पुं.) विपक्ष, शत्रु।

प्रतिस्वारण-(सं.पुं.) द्वीकरण, अलग करना।

प्रतिस्वार्णाय-(सं.वि.) प्रतिस्वारण करने के योग्य।

प्रतिस्वारित-(सं. वि.) अलग किया हुआ, बदला हुआ, शोचा हुआ।

प्रतिस्वत्री-(सं. स्त्री.) परायी या दूसरे की स्त्री।

प्रतिस्वस्थान-(सं. अव्य.) प्रत्येक स्थान में।

प्रतिस्वर्धा-(सं. स्त्री.) किसी काम में

दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, चढ़ा-उपरी, विवाद, झगड़ा ।

प्रतिस्पर्धी—(सं.पुं., वि.) विद्रोही, उद्दण्ड, बराबरी करनेवाला ।

प्रतिल्लाव—(सं. पुं.) नाक में से पीप निकलने का एक रोग ।

प्रतिहंतव्य—(हिं. वि.) रोकने योग्य ।

प्रतिहंता—(सं. पुं.) बाधक, रोकनेवाला ।

प्रतिहत—(सं. वि.) हटाया हुआ, मना किया हुआ, चोट खाया हुआ, उसकाया हुआ, रूका हुआ, बँधा हुआ, आशाहीन ।

प्रतिहति—(सं. स्त्री.) क्रोध, हटाने की चेष्टा, प्रतिघात, अवरोध, निराशा ।

प्रतिहरण—(सं. पुं.) विनाश, निवारण ।

प्रतिहस्त—(सं. पुं.) प्रतिनिधि ।

प्रतिहार—(सं. पुं.) द्वारपाल, दरवान, चौबदार, द्वार, ड्योढ़ी, ऐन्द्रजालिक, वाजीगर, प्राचीन काल का एक राजकर्मचारी जो सर्वदा राजा के पास रहता और उनको समाचार आदि सुनाया करता था; -क—(पु.) ऐन्द्रजालिक ।

प्रतिहारी—(सं. पुं.) द्वारपाल, दरवान ।

प्रतिहार्य—(सं. वि.) परिहार्य, छोड़ने योग्य ।

प्रतिहास—(सं. पुं.) हँसी करनेवाले के साथ हँसी करना, सफेद कनेर का वृक्ष ।

प्रतिहिंसा—(सं. स्त्री.) बदला लेना, बदला चुकाने के लिये हिंसा करना ।

प्रतीक—(सं. पुं.) अवयव, अंग, चिह्न, परबल, प्रतिरूप, प्रतिमा, उपासना का एक मेद, भूख, आकृति, किसी वाक्य या पद्य के आदि तथा अन्त के कुछ अक्षर या शब्द लिखना जिससे पूरे वाक्य या पद्य का पता लगता है ।

प्रतीकार—(सं. पुं.) अपकार का बदला चुकाने के लिये किया हुआ अनिष्ट ।

प्रतीकाज्ञा—(सं. पुं.) सादृश्य, उपमा ।

प्रतीकोपासना—(सं. स्त्री.) व्यापक ब्रह्म की भावना करके किसी विशेष पदार्थ का पूजन करना, प्रतिमा-पूजन ।

प्रतीक्षक—(सं. पुं., वि.) प्रतीक्षा करनेवाला, आसरा देखनेवाला, पूजा करनेवाला ।

प्रतीक्षण—(सं. पुं.) आसरा देखना, कृपा-दृष्टि ।

प्रतीक्षणीय—(सं. वि.) प्रतीक्षा करने योग्य ।

प्रतीक्षा—(सं. स्त्री.) प्रतीक्षण, आसरा, प्रतिपालन, पालन-पोषण ।

प्रतीघात—(सं. पुं.) रूकावट, बाधा, टक्कर, निराशा ।

प्रतीची—(सं. स्त्री.) पश्चिम दिशा ।

प्रतीचीन—(सं. वि.) पश्चिम दिशा का,

पछाँह का, पराङ्मुख, जिसने मुँह फेर लिया हो ।

प्रतीच्छक—(सं. पुं., वि.) ग्राहक, लेनेवाला ।

प्रतीच्य—(सं. वि.) पश्चिम दिशा का ।

प्रतीत—(सं. वि.) प्रसिद्ध, प्रसन्न, विदित, जाना हुआ, विश्वस्त ।

प्रतीति—(सं. स्त्री.) विश्वास, दृढ़ निश्चय, प्रसिद्धि, आदर, आनन्द, ज्ञान ।

प्रतीनाह—(सं. पुं.) कान का एक रोग, पताका ।

प्रतीप—(सं. वि.) प्रतिकूल, उलटा; (पुं.) एक चन्द्रवंशी राजा का नाम, एक अर्थालंकार जिसमें उपमेय को उपमान के समान न कहकर इसके विपरीत उपमान को उपमेय के समान वर्णन करते हैं अथवा उपमेय द्वारा उपमान का तिरस्कार दिखलाया जाता है ।

प्रतीपग—(सं. वि.) उलटा आचरण करनेवाला ।

प्रतीपगति—(सं. स्त्री.) प्रतिकूल गति ।

प्रतीपगमन—(सं. पुं.) प्रतिकूल गमन ।

प्रतीपतरण—(सं. पुं.) जल के प्रवाह के विपरीत नाव चलाना ।

प्रतीपवर्शिनी—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जो देखते ही अपना मुँह फेर ले ।

प्रतीपवचन—(सं. पुं.) प्रतिकूल वाक्य, खण्डन ।

प्रतीपोदित—(सं. स्त्री.) प्रतीप-वचन ।

प्रतीपयान—(सं. वि.) जो ध्वनि या व्यंजन द्वारा प्रकट हो, जान पड़ता हुआ ।

प्रतीर—(सं. पुं.) तट, किनारा ।

प्रतीवत्त—(सं. वि.) गोलाकार, वल्लु ।

प्रतीवाप—(सं. पुं.) दैवी उपद्रव ।

प्रतीवेश—(सं. पुं.) प्रतिवेश, पड़ोस ।

प्रतीवेशी—(सं. पुं., वि.) पड़ोस में रहनेवाला, पड़ोसी ।

प्रतीहार—(सं. पुं.) द्वार, देखें 'प्रतिहार' ।

प्रतीहारी—(सं. पुं.) द्वारपाल, ड्योढ़ी-द्वार ।

प्रतुङ्क—(सं. पुं.) जीवक नाम की जड़ी ।

प्रतुद—(सं. पुं.) ऐसे पक्षी जो चोंच से तोड़कर अपना भक्ष्य खाते हैं ।

प्रतुष्टि—(सं. स्त्री.) अधिक सन्तोष ।

प्रतूलिका—(सं. स्त्री.) गद्दा ।

प्रतुद—(सं. पुं.) पैना, चावुक ।

प्रतुली—(सं. स्त्री.) सड़क, गली, गड़ का वह गुप्त मार्ग जो जमीन के नीचे से हो ।

प्रतुषना—(हिं. क्रि. स.) सन्तुष्ट करना ।

प्रत्न—(सं. वि.) पुरातन, प्राचीन, पुराना;

-तत्त्व—(पुं.) वह विद्या जिसमें प्राचीन बातों का विवरण हो, पुरातत्त्व ।

प्रत्यंचा—(हिं. स्त्री.) घनुष की डोरी ।

प्रत्यंश—(सं. पुं.) प्रत्येक अंश या विभाग ।

प्रत्यक्—(हिं. अव्य.) पीछे, पश्चिम की ओर ।

प्रत्यक्पुष्पी—(सं. स्त्री.) अपामार्ग, चिचड़ा ।

प्रत्यक्ष—(सं. वि.) इन्द्रिय-ग्राह्य, जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो सके, इन्द्रियगोचर, जो आँखों के सामने हो; (पुं.) चार प्रकार के प्रमाणों में से एक जो सब से श्रेष्ठ माना जाता है; (अव्य.) आँखों के सामने; -ता—(स्त्री.) प्रत्यक्ष होने का भाव; -दर्शन—(पुं.) साक्षात् या आँखों के सामने देखना, वह साक्षी जिसने अपनी आँखों से किसी घटना को देखा हो; -दर्शी—(वि., पुं.) (वह साक्षी) जिसने अपनी आँखों से घटना देखी हो; -दृष्ट—(वि.) जो प्रत्यक्ष रूप से देखा गया हो; -प्रमाण—(पुं.) स्पष्ट प्रमाण; -वादी—(पुं., वि.) (वह) जो प्रत्यक्ष से भिन्न अस्तित्व को नहीं मानता ।

प्रत्यक्षीकरण—(सं. पुं.) इन्द्रियों द्वारा ज्ञात कराने की क्रिया ।

प्रत्यक्षीभूत—(सं. वि.) जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हुआ हो ।

प्रत्यगात्मन्—(सं. पुं.) ब्रह्मचैतन्य, परमेश्वर ।

प्रत्यगाशापति—(सं. पुं.) पश्चिम दिशा के अधिपति वरुण ।

प्रत्यग्र—(सं. वि.) नूतन, नया, शोवा हुआ ।

प्रत्यनीक—(सं. पुं.) विरोधी, शत्रु, विघ्न, बाधा, प्रतिवादी, एक अर्थालंकार जिसमें किसी के पक्ष में रहनेवाले या संबंधी के प्रति किसी हित या अहित का किया जाना वर्णित होता है ।

प्रत्यनुमान—(सं. पुं.) तर्क में वह अनुमान जो किसी दूसरे के अनुमान का खण्डन करते हुए किया जाय ।

प्रत्यपकार—(सं. पुं.) किसी अपकार के बदले किया हुआ अपकार ।

प्रत्यभिचरण—(सं. पुं.) रोकने या हटाने की क्रिया ।

प्रत्यभिज्ञा—(सं. स्त्री.) वह ज्ञान जो कमी देखी हुई वस्तु को अथवा उसके समान किसी अन्य वस्तु को फिर से देखने पर उत्पन्न हो; -दर्शन—(पुं.) वह दर्शन जिसके अनुसार भक्तवत्सल महेश्वर ही परमेश्वर माने जाते हैं ।

प्रत्यभिज्ञान—(सं. पुं.) सद्दृश वस्तु देखकर वैसे ही पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण ।

प्रत्यभिभाषी—(हिं. वि.) अभिनन्दन करने-

बाला ।
 प्रत्यभियोग—(सं. पं.) वह अभियोग जो अभियुक्त अभियोग लगानेवाले पर लगाना है ।
 प्रत्यभिविवाद—(सं. पं.) वह आशीर्वाद जो किसी वड़े को अभिवादन करने पर मिले ।
 प्रत्यमित्र—(सं. पं.) शत्रु ।
 प्रत्यय—(सं.पं.) ज्ञान, बुद्धि, शपथ, सौगंध, विश्वास, प्रमाण, रूप-निश्चय, व्याकरण में वह अक्षर या शब्द जो मूल शब्द के अन्त में लगकर विजिगट अर्थ उत्पन्न करता है, छन्दों के भेद और उनकी संख्याएँ जानने की रीति, सम्मति, निर्णय, चिह्न, आवग्यकता, व्याख्या. विचार, आचार, प्रसिद्धि, कारण, हेतु, छिद्र, सहायक,स्वाद; -कारी—(वि.) विश्वास उत्पन्न करनेवाला ।
 प्रत्ययित—(सं. वि.) विश्वस्त, विश्वास किया हुआ, पाया हुआ ।
 प्रत्ययी—(सं.पं.,वि.)विश्वस्त, विश्वासयुक्त ।
 प्रत्यचन—(सं. पं.) पूजा के बदले पूजा ।
 प्रत्यर्थक—(सं. पं.) वीरी, शत्रु ।
 प्रत्यर्थी—(सं. पं.) शत्रु, प्रतिवादी ।
 प्रत्यर्पण—(सं. पं.) दान म पाये हुए धन आदि को फिर से दान करना ।
 प्रत्यपित—(सं. वि.) प्रत्यर्पण किया हुआ ।
 प्रत्यवरोह—(सं.पं.) सोपान,सीढ़ी,उतरना ।
 प्रत्यवरोही—(सं. वि.) उतरनेवाला ।
 प्रत्यवसान—(सं. पं.) भोजन ।
 प्रत्यवसित—(सं. वि.) खाया हुआ ।
 प्रत्यवस्कन्द—(सं. पं.) प्रतिवादी का वह उत्तर जो वादी के कथन का खण्डन करने के लिये दिया जाता है ।
 प्रत्यवस्थान—(सं.पं.) शत्रु के रूप में रहना ।
 प्रत्यवहार—(सं.पं.) महार, मार डालना ।
 प्रत्यवाय—(सं.पं.) नित्य-कर्म न करने से उत्पन्न पाप, महान् परिवर्तन, उलट-फेर ।
 प्रत्यवेक्षण—(सं. पं.) अनुसन्धान, खोज, विचार, सावधानी ।
 प्रत्यस्तगमन—(सं. पं.) सूर्य का डूबना ।
 प्रत्यस्त्र—(सं. पं.) तुल्य शक्तिवाला अस्त्र ।
 प्रत्यह—(सं. अव्य.) प्रतिदिन ।
 प्रत्याक्षेपक—(सं.पं., वि.) उपहास करनेवाला, हँसी उड़ानेवाला ।
 प्रत्याख्यात—(सं. वि.) अस्वीकृत ।
 प्रत्याख्यान—(सं.पं.) निराकरण,अस्वीकार करना, खण्डन ।
 प्रत्यागत—(सं. वि.) लौटा हुआ ।
 प्रत्यापति—(सं. स्त्री.) लौट आना ।
 प्रत्यागमन—(सं.पं.) लौट आना, वापसी ।

प्रत्याघात—(सं.पं.) चोट के बदले चोट, टक्कर ।
 प्रत्याचार—(सं.पं.) अच्छा आचरण ।
 प्रत्यात्मा—(सं. वि.) एकाकी, अकेला; (पु.) प्रतिविम्ब, छाया ।
 प्रत्याद्विष्ट—(सं. वि.) जताया हुआ, छोड़ा हुआ, खण्डित ।
 प्रत्यादेश—(हि. पं.) चेतावनी, खण्डन ।
 प्रत्यानयन—(हि. पं.) फिर से लाना ।
 प्रत्यानीत—(सं. वि.) फिर से लाया हुआ ।
 प्रत्यापत्ति—(सं.स्त्री.) वैराग्य,पुनरागमन ।
 प्रत्याम्नाय—(सं.पं.) प्रतिनिधि, अनुमान ।
 प्रत्यायक—(सं. वि.) विश्वासकारक ।
 प्रत्यायित—(सं. वि.) विश्वस्त ।
 प्रत्यालीह—(सं. पं.) घनपु चलानेवाले के बैठने का एक ढंग ।
 प्रत्यावर्तन—(सं.पं.) वापसी, लौट आना ।
 प्रत्यावृत्त—(सं.वि.) लौटा हुआ, दोहराया हुआ ।
 प्रत्याशा—(सं. स्त्री.) आशा, भरोसा ।
 प्रत्याशी—(सं. वि.) आशा करनेवाला ।
 प्रत्याश्रय—(सं. पं.) शरण का स्थान ।
 प्रत्यासत्ति—(सं.स्त्री.) निकटवर्ती स्थान ।
 प्रत्यासर, प्रत्यासार—(सं. पं.) सेना के पीछे का मोरचा ।
 प्रत्याहार—(सं. पं.) योग के आठ अंगों में से एक जिसमें इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त के समान विरुद्ध किया जाता है, इन्द्रियों का पूर्ण रूप से निग्रह ।
 प्रत्युत्त—(सं.वि.) जवाब या उत्तर दिया हुआ ।
 प्रत्युत्—(सं. अव्य.) इसके विरुद्ध, वरन्, (विपरीत भाव का सूचक ।)
 प्रत्युत्कर्ष—(सं. पं.) मूल्य की अधिकता ।
 प्रत्युत्तर—(सं. पं.) उत्तर का उत्तर ।
 प्रत्युत्थान—(सं. पं.) किसी वड़े या पूज्य के आने पर उसके स्वागत के लिये आसन छोड़कर खड़ा हो जाना ।
 प्रत्युत्पन्न—(सं. वि.) जो फिर से अथवा ठीक समय पर उत्पन्न हुआ हो, सत्वर ।
 प्रत्युदाहरण—(सं.पं.) उदाहरण के विपरीत उदाहरण ।
 प्रत्युद्गम, प्रत्युद्गमन—(सं. पं.) देखें 'प्रत्युत्थान' ।
 प्रत्युपकार—(सं. पं.) किसी उपकार के बदले किया जानेवाला उपकार ।
 प्रत्युपकारी—(सं.वि.) उपकार का बदला देनेवाला ।
 प्रत्युपक्रिया—(सं.स्त्री.) देखें 'प्रत्युपकार' ।
 प्रत्युपभोग—(हि. पं.) सुख का भोग ।

प्रत्युपवेश—(सं.पं.) बलपूर्वक स्वीकार कराना ।
 प्रत्युपस्थान—(सं.पं.) निकटवर्ती स्थान ।
 प्रत्युपहार—(सं.पं.) भेंट के बदले भेंट ।
 प्रत्युष, प्रत्युष—(सं. पं.) प्रमात, सवेरा, सूर्य, एक वसु का नाम ।
 प्रत्युह—(सं. पं.) विघ्न, बाधा ।
 प्रत्येक—(सं.वि.) बहुतां में से हर एक, अलग-अलग; -त्व—(पं.) अलग-अलग होने का भाव ।
 प्रत्रास—(सं. पं.) कंप, कँपकँपी ।
 प्रथम—(सं. वि.) प्रधान, मुख्य, पहला, सर्वश्रेष्ठ, सब से उत्तम; (अव्य.) आग, पहले; -कल्पित—(वि.) जिसकी कल्पना पहले की गई हो; -कारक—(पं.) व्याकरण में कर्ता कारक; -गर्भ—(पं.) प्रथम वार का गर्भ; -ज, -जात—(वि.) अग्रज, जो पहले उत्पन्न हुआ हो; -तः—(अव्य.) पहले, सब से पहले; -पुरुष—(पं.) आदि पूर्वज, पुराने समय का मनुष्य, व्याकरण में वह सर्वनाम जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, यथा—'वह सो रहा है' में वह; -रात्र—(पं.) रात का शुरु का भाग; -संयम—(पं.) पहली वार भेंट या संभोग ।
 प्रथमा—(सं. स्त्री.) व्याकरण में कर्ता कारक, मद्य ।
 प्रथमार्ध—(सं.पं.) आदि का आधा अंश ।
 प्रथमी—(हि. स्त्री.) देखें 'पृथ्वी' ।
 प्रथमेतर—(सं. वि.) भिन्न, दूसरा ।
 प्रथा—(सं. स्त्री.) स्थिति, प्रसिद्धि, रीति चाल, नियम ।
 प्रथित—(सं. वि.) प्रसिद्ध ।
 प्रथिवी—(सं. स्त्री.) देखें 'पृथ्वी' ।
 प्रथु—(सं. पं.) देखें 'पृथु', विष्णु ।
 प्रद—(सं. वि.) दाता, देनेवाला, (योगिक शब्दों के अन्त में इस शब्द का प्रयोग होता है, जैसे—सुखप्रद, कष्टप्रद इत्यादि ।)
 प्रदक्षिण—(सं.पं.), प्रदक्षिणा—(सं.स्त्री.) देवमूर्ति को दाहिनी ओर करके मकित-पूर्वक उसके चारों ओर घूमना, परिक्रमा करना ।
 प्रदत्त—(सं. वि.) अर्पित, दिया हुआ; (पं.) एक गन्धर्व का नाम ।
 प्रदर—(सं. पं.) तोड़ने या फोड़ने का काम, स्त्रियों का एक रोग जिसमें उनके गर्भाशय से सफेद या लाल रंग का लसदार स्राव निकलता है ।
 प्रदर्श—(सं.पं.) भेंट, आज्ञा, रूप ।
 प्रदर्शन—(सं. वि.) देखने या दिखलानेवाला; (पं.) रूप, उल्लेख, दिखलाने

का काम, प्रदर्शनी।

प्रदर्शनी-(सं. स्त्री.) वह स्थान जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएँ प्रदर्शन के लिये रखी जाती हैं; तुमाइश।

प्रदर्शित-(सं. वि.) दिखलाया हुआ।

प्रदल-(सं. पुं.) वाण, तीर।

प्रदव्य-(सं. पुं.) दावानल, जंगल की आग।

प्रदहन-(सं. पुं.) अच्छी तरह से जलना।

प्रदातव्य-(सं. वि.) दान देने योग्य।

प्रदाता-(सं. पुं.) अधिक दान देनेवाला, इन्द्र।

प्रदान-(सं. पुं.) दान देने की क्रिया, कन्या-दान, अंकुश; -रुचि-(वि.) जिसकी दान देने में रुचि हो; -शूर-(पुं.) दान-वीर, बड़ा दानी।

प्रदायक-(सं. पुं., वि.) प्रदान करनेवाला, दान देनेवाला।

प्रदायी-(सं. पुं., वि.) दान देनेवाला।

प्रदाव-(सं. पुं.) दावाग्नि, जंगल की आग।

प्रदाह-(सं. पुं.) जलन जो अधिक ज्वर आदि के कारण शरीर में उत्पन्न होती है।

प्रदिग्ध-(सं. पुं.) घी में अच्छी तरह पकाया हुआ मांस।

प्रदिव-(सं. वि.) बहुत चमकनेवाला, पुरातन, पुराना; (पुं.) पर्व का दिन।

प्रदिशा-(सं. स्त्री.) दो मुख्य दिशाओं के बीच का कोना।

प्रदीप-(सं. पुं.) दीप, दीया, प्रकाश, सम्पूर्ण जाति का एक राग।

प्रदीपक-(सं. वि., पुं.) प्रकाशक, प्रकाश में लानेवाला, उद्दीपक।

प्रदीपति-(हि. स्त्री.) देखें 'प्रदीप्ति'।

प्रदीपन-(सं. पुं.) प्रकाश करने का काम, उद्दीपन, चमकाना, उजाला करना, एक प्रकार का भयंकर स्थावर विप जिसके स्पर्श या सूँघने से ही मनुष्य मर जाता है; (वि.) प्रकाश करनेवाला।

प्रदीपिका-(सं. स्त्री.) छोटी लालटेन, एक रागिनी का नाम।

प्रदीप्त-(सं. वि.) उज्ज्वल, चमकता हुआ, प्रकाशमात्र, जगमगाता हुआ।

प्रदीप्ति-(सं. स्त्री.) प्रकाश, चमक।

प्रद्युम्न-(हि. पुं.) देखें 'प्रद्युम्न'।

प्रदेय-(सं. वि.) दान के उपयुक्त, दान करने योग्य।

प्रदेश-(सं. पुं.) किसी देश का बड़ा विभाग, प्रान्त, सूबा, स्थान, संज्ञा, नाम, अंग, अवयव, भीत, पद, अँगूठे के अगले सिरे से लेकर तर्जनी के अगले सिरे तक की दूरी, वित्त।

प्रदेशकारी-(सं. पुं.) योगियों का एक

सम्प्रदाय।

प्रदेशन-(सं. पुं.) भेंट, आज्ञा।

प्रदेशनी, प्रदेशिनी-(सं. स्त्री.) तर्जनी, अँगूठे के पास की अँगूठी।

प्रदेशीय-(सं. वि.) प्रदेश-सम्बन्धी।

प्रदेह-(सं. पुं.) फोड़े आदि के ऊपर लगाने का लेप।

प्रदोष-(सं. पुं.) सायंकाल, रात्रि के प्रथम चार दण्डों का काल, सूर्यास्त के बाद चार दण्डों तक का काल, भारी अपराध, संव्या के समय होनेवाला अँघेरा, त्रयो-दशी का व्रत जिसमें दिन भर उपवास के बाद सन्व्या के समय शिव का पूजन करके भोजन किया जाता है।

प्रदोह-(सं. पुं.) दोहन, दुहना।

प्रद्युम्न-(सं. पुं.) कर्णपर्व, कामदेव, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम; (वि.) अत्यन्त बलवान्, बड़ा वीर।

प्रद्योत-(सं. पुं.) रश्मि, किरण, दीप्ति, चमक, एक यक्ष का नाम।

प्रद्योतन-(सं. पुं.) सूर्य, दीप्ति, चमक।

प्रदाव-(सं. पुं.) पलायन, भागना।

प्रद्वार-(सं. पुं.) द्वार का अगला भाग।

प्रद्वेष-(सं. पुं.) शत्रुता, वैर।

प्रद्वेषण-(सं. पुं.) धृणा, द्वेष।

प्रघन-(सं. पुं.) युद्ध, लड़ाई; (वि.)

जिसके पास बहुत धन हो।

प्रघर्ष-(सं. पुं.) आक्रमण, धावा।

प्रघर्षक-(सं. वि., पुं.) आक्रमण करने-वाला।

प्रघर्षण-(सं. पुं.) आक्रमण, चढ़ाई, अनादर, अपकार, बलात्कार।

प्रघा-(सं. स्त्री.) दक्ष प्रजापति का कन्याजिस का विवाह कश्यप से हुआ था।

प्रघान-(सं. पुं.) प्रकृति, परमात्मा, सेनाध्यक्ष, सचिव, मन्त्री, सरदार, नेता; (वि.) मुख्य, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, प्रमुख;

-रु-(पुं.) सांख्य के अनुसार बुद्धितत्व;

-ता-(स्त्री.) प्रघान होने का भाव, धर्म, कार्य या पद, श्रेष्ठता, उत्तमता।

प्रघानात्मा-(सं. पुं.) परमात्मा, विष्णु।

प्रघानन-(सं. पुं.) वेग से दौड़ना, वायु, हवा।

प्रघि-(सं. पुं.) नैमि, पहिये का घेरा।

प्रघो-(सं. स्त्री.) तीव्र बुद्धि।

प्रघुपित-(सं. वि.) तप्त, तपाया हुआ, दीप्त, चमकता हुआ।

प्रघ्वात-(सं. वि.) शब्द करता हुआ।

प्रघ्यान-(सं. पुं.) गन्धीर ध्यान।

प्रघ्वंस-(सं. पुं.) नाश, सांख्य के अनुसार किसी पदार्थ की अतीत अवस्था।

प्रघ्वंसक-(सं. पुं., वि.) नाश करनेवाला।

प्रघ्वंसन-(सं. पुं.) नाश।

प्रघ्वस्त-(सं. वि.) जो नष्ट हो गया हो, जो बीत गया हो।

प्रन-(हि. पुं.) प्रण, संकल्प, दृढ़ निश्चय।

प्रनति-(हि. स्त्री.) देखें 'प्रणति'।

प्रनम(त्र)ना-(हि. क्रि. सं.) देखें 'प्रणमना'।

प्रनष्ट-(सं. वि.) पूरी तरह से नष्ट।

प्रनाम्नी-(हि. पुं.) प्रणाम करनेवाला;

(स्त्री.) वह धन या दक्षिणा जो गुरु, ब्राह्मण आदि को शिष्य या भक्त प्रणाम करते समय देते हैं।

प्रनाली-(हि. स्त्री.) प्रणाली।

प्रनाशन-(हि. पुं.) देखें 'प्रणाशन'।

प्रनाशी-(हि. वि.) नाश करनेवाला।

प्रनिघातन-(सं. पुं.) वध, हत्या।

प्रनिघात-(हि. पुं.) देखें 'प्रणिघात'।

प्रनीड-(सं. वि.) घोंसला छोड़नेवाला पक्षी।

प्रपंच-(सं. पुं.) विस्तार, फैलाव, संचय, संसार, विपर्यास, उलट-पलट, भवजाल, संसारी जंजाल, झमेला, बखेड़ा, घोखा, आडम्बर, ढोंग।

प्रपंचक-(सं. वि.) प्रपंच फैलानेवाला।

प्रपंचित-(सं. वि.) भ्रमयुक्त, ठगा हुआ।

प्रपंची-(सं. वि., पुं.) प्रपंच करनेवाला, छली, कपटी, ढोंगी, बखेड़िया, झगड़ालू।

प्रपक्व-(सं. वि.) अच्छी तरह से पका हुआ

प्रपक्ष-(सं. पुं.) पंख का अगला भाग।

प्रपण-(सं. पुं.) विनिमय, बदला।

प्रपत्ति-(सं. स्त्री.) अनन्य भक्ति।

प्रपद-(सं. पुं.) पैर का अगला भाग।

प्रपन्न-(सं. वि.) प्राप्त, पाया हुआ, शरणागत, शरण में आया हुआ।

प्रपर्ण-(सं. पुं.) गिरा हुआ पत्ता।

प्रपलायन-(हि. पुं.) पलायन, वेग से भाग जाना।

प्रपा-(सं. स्त्री.) वह स्थान जहाँ प्यासों को पानी पिलाया जाता है, पीसरा।

प्रपाक-(सं. पुं.) घाव के पकने की क्रिया।

प्रपाठक-(सं. पुं.) श्रौत ग्रन्थ (वेद) के अध्यायों का अंश।

प्रपाणि-(सं. पुं.) पापितल, हथेली।

प्रपात-(सं. पुं.) पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा, पानी का झरना, कल, किनारा, जल की धारा जो ऊँचे स्थान से गिरती हो, एकवारगी नीचे गिरना।

प्रपाद-(सं. पुं.) असमय का प्रसव।

प्रपान-(सं. पुं.) पीसरा, प्याऊ, पेय।

प्रपापूरण-(सं. पुं.) पानी के कुण्ड को जन से भरना।

प्रपालन—(सं.पुं.) अच्छी तरह रक्षा करना।
 प्रपितामह—(सं.पुं.) परब्रह्म, ब्रह्मा, दादा के बाप, परदादा।
 प्रपितृव्य—(सं.पुं.) परदादा का भाई।
 प्रपितृमु—(सं.वि.) पाने की इच्छा करनेवाला।
 प्रपीडन—(सं.पुं.) अधिक कष्ट देना, सताना।
 प्रपीडित—(सं.वि.) अधिक सताया हुआ।
 प्रपुंज—(सं.पुं.) बहुत बड़ा समूह या झुण्ड।
 प्रपुत्र—(सं.पुं.) पौत्र, बेटे का बेटा।
 प्रपुत्राट, प्रपुत्राड—(सं.पुं.) चकवैड़ का पौधा।
 प्रपुष्पित—(सं.वि.) फूल से लदा हुआ।
 प्रपूरक—(सं.वि.) पूरा करनेवाला, प्रसन्न करनेवाला।
 प्रपूरिका—(सं.स्त्री.) कण्टकारी, भटकटैया।
 प्रपूरित, प्रपूर्ण—(सं.वि.) परिपूर्ण, तृप्त किया हुआ, भरा हुआ।
 प्रपृष्ठ—(सं.वि.) जिसकी पीठ ऊँची हो।
 प्रपौत्र—(सं.पुं.) पोते का लड़का, परपोता।
 प्रपौत्री—(सं.स्त्री.) पोते की कन्या, परपोती।
 प्रप्लावन—(सं.पुं.) पानी से आग बुझाना।
 प्रफुलना—(हि.क्रि.अ.) फूलना, खिलना।
 प्रफुला—(हि.स्त्री.) कमलिनी, कुमुदनी, कुई।
 प्रफुलित—(हि.वि.) कुसुमित, खिला हुआ, प्रफुल्ल, आनन्दित।
 प्रफुल्ल—(सं.वि.) विकसित, खिला हुआ, कुसुमित, फूला हुआ, प्रसन्न, आनन्दित, खुला हुआ, जो बंद या मुँदा हुआ न हो।
 प्रफुल्लित—(हि.वि.) प्रफुल्ल।
 प्रबंध—(सं.पुं.) बाँधने की डोरी आदि, कई वस्तुओं आदि का एक में बँधना, योजना, वाक्य-रचना का विस्तार, उपाय, आयोजन, व्यवस्था, पूर्वापर संगति, बँधा हुआ क्रम।
 प्रबंध-कल्पना—(सं.स्त्री.) ऐसा निबंध, काव्य, उपन्यास आदि जिसमें थोड़ी सी बातें सच हों और बहुत-सी बातें मन रो गढ़कर मिला दी गई हों।
 प्रग्रह—(सं.वि.) प्रधान, श्रेष्ठ।
 प्रग्रह—(सं.वि.) बलवान्, प्रचण्ड, उग्र, महान्, धोर।
 प्रग्रहा—(सं.वि.स्त्री.) बहुत बलवती, प्रचण्डा।
 प्रग्रहाक्षी—(सं.पुं.) सर्प, साँप।
 प्रग्रहाल—(सं.पुं.) 'प्रवाल', सूंगा।
 प्रग्रहालय—(सं.पुं.) लाल कमल।

प्रवास—(हि.पुं.) देखें 'प्रवास'।
 प्रवाह—(हि.पुं.) देखें 'प्रवाह'।
 प्रवाहु—(सं.पुं.) हाथ का अगला भाग, पहुँचा।
 प्रवीन—(हि.वि.) देखें 'प्रवीण'।
 प्रबुद्ध—(सं.वि.) पण्डित, ज्ञानी, जागा हुआ, खिला हुआ, सचेत।
 प्रबुध—(सं.स्त्री.) यथार्थ या पूर्ण ज्ञानी।
 प्रबोध—(सं.पुं.) पूर्ण बोध, यथार्थ ज्ञान, विकास, चैतवनी, नींद टूटना, जागना, सान्त्वना, ढाढ़स।
 प्रबोधक—(सं.वि.) चैतानेवाला, जगानेवाला, ढाढ़स देनेवाला।
 प्रबोधन—(सं.पुं.) यथार्थ ज्ञान, जागरण, जगाना, विकास, खिलना, नींद से उठना, आइवासन, ज्ञान देना।
 प्रबोधना—(हि.क्रि.सं.) नींद से जगना, समझाना-बुझाना, सचेत करना, मन में बैठाना, ढाढ़स देना, सिखाना, पट्टी पढ़ाना।
 प्रबोधनी—(सं.स्त्री.) कार्तिक शुक्ल-पक्ष की एकादशी, देवोत्थान एकादशी जिस दिन भगवान् सोकर उठते हैं।
 प्रबोधित—(सं.वि.) जगाया हुआ, समझाया हुआ।
 प्रबोधिता—(सं.स्त्री.) एक वर्णवृत्त का नाम जिसको सुनन्दिनी या मञ्जुमाषिणी भी कहते हैं।
 प्रबोधिनी—(सं.स्त्री.) देखें 'प्रबोधनी'।
 प्रबोधी—(सं.वि.) जगानेवाला।
 प्रभंग—(सं.वि.) भग्न, टूटा हुआ।
 प्रभंजन—(सं.पुं.) प्रचण्ड वायु, आँधी, तोड़-फोड़, विनाश।
 प्रभद्र—(सं.पुं.) नीम का पेड़; (वि.) श्रेष्ठ।
 प्रभद्रक—(सं.पुं.) पंद्रह अक्षरों का एक वर्णवृत्त।
 प्रभद्रा—(सं.स्त्री.) प्रसारिणी लता।
 प्रभव—(सं.पुं.) जन्म-हेतु, पराक्रम, उत्पत्ति, सृष्टि, संसार, विष्णु, एक संवत्सर का नाम, एक मुनि का नाम।
 प्रभवन—(सं.पुं.) उत्पत्ति, अधिष्ठान।
 प्रभविलु—(सं.वि.) प्रभावशाली; (पुं.) विष्णु।
 प्रभा—(सं.स्त्री.) दीप्ति, चमक, प्रकाश, तेज, दुर्गा, कुबेरपुरी, राजा नहुष की माता का नाम, एक अप्सरा का नाम, सूर्य का विम्ब, वारंह अक्षरों का एक वर्णवृत्त जिसको मन्दाकिनी भी कहते हैं।
 प्रभाउ—(हि.पुं.) देखें 'प्रभाव'।

प्रभाकर—(सं.पुं.) सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, समुद्र, एक नाग का नाम।
 प्रभाकीट—(सं.पुं.) खद्योत, जुगनु।
 प्रभाग—(सं.पुं.) भाग का विभाग, मन्नांश।
 प्रभात—(सं.पुं.) प्रातःकाल, प्रत्युष।
 प्रभाती—(सं.स्त्री.) दन्तधावन, दातून, प्रातःकाल गाने का एक प्रकार का गीत।
 प्रभान—(सं.पुं.) ज्योति, दीप्ति।
 प्रभापन—(सं.पुं.) उजाला करना।
 प्रभापर्ण—(सं.वि.) प्रकाश करनेवाला।
 प्रभामंडल—(सं.पुं.) गोलाकार रश्मि-पुंज।
 प्रभामय—(सं.वि.) दीप्तिमय।
 प्रभाव—(सं.पुं.) प्रताप, तेज, सामर्थ्य, महिमा, विक्रम, माहात्म्य, शक्ति, शान्ति, उद्भव, किसी के अन्तःकरण को अपनी ओर प्रवृत्त करने का गुण और इस प्रवृत्ति पर होनेवाला फल या परिणाम।
 प्रभावज—(सं.वि.) प्रभाव से उत्पन्न।
 प्रभादती—(सं.स्त्री.) प्रभावशाली स्त्री, कुमार की एक मातृका का नाम, सूर्य की पत्नी, शिव की एक वीणा का नाम, तेरह अक्षरों का एक छन्द जिसको रुचिरा भी कहते हैं, एक राग का नाम।
 प्रभावन—(सं.वि.) प्रभावशाली।
 प्रभाष—(सं.पुं.) एक वसु का नाम।
 प्रभाषण—(सं.पुं.) अच्छी तरह कहना।
 प्रभाषी—(सं.वि.) अच्छी तरह से बोलनेवाला, सुवक्ता।
 प्रभास—(सं.पुं.) एक वसु का नाम, कुमार का एक अनुचर, ज्योति, दीप्ति; (वि.) पूर्ण प्रभायुक्त।
 प्रभासन—(सं.पुं.) दीप्ति, ज्योति।
 प्रभासना—(हि.क्रि.अ.) दिखाई पड़ना।
 प्रभिल—(सं.वि.) भिन्न, विभक्त।
 प्रभु—(सं.पुं.) विष्णु, शिव, पारद, पारा, अधिपति, नायक, स्वामी, नेता अधिप, पालक, शिव, भगवान्, ईश्वर; -ता—(स्त्री.), -ताई—(हि.स्त्री.) महत्त्व, बड़ाई, वैभवं, शासन का अधिकार; -त्व—(पुं.) देखें 'प्रभुता'।
 प्रभुत्वाक्षेप—(सं.पुं.) एक अर्थालंकार जिसमें कोई नायिका अपने प्रभुत्व के अभिमान से नायक को बाहर जाने से रोकती है।
 प्रभुभक्त—(सं.पुं.) बहियाबोड़ा; (वि.) स्वामिभक्त।
 प्रभूत—(सं.वि.) प्रचुर, अधिक, उन्नत, बढ़ा हुआ, निकला हुआ, बहुत; (पुं.) पंचभूत, पंच-तत्त्व।

प्रभूति—(सं.स्त्री.)उत्पत्ति, शक्ति, अधिकता।
 प्रभृति—(सं. अव्य.) इत्यादि, आदि।
 प्रभेद—(सं.पुं.) विभिन्नता, भेद, अन्तर,
 शरीर में फोड़ा निकलना।
 प्रभेदक—(सं.पुं., वि.) विभाग करनेवाला।
 प्रभेदनी—(सं. स्त्री.) छेद करने का अस्त्र।
 प्रभदिका—(सं.वि.,स्त्री.) छेद करनेवाली।
 प्रभ्रंश—(सं.पुं.) अलग होना, नष्ट होना।
 प्रभ्रष्ट—(सं. वि.) टूटा-फूटा।
 प्रभंडल—(सं.पुं.) पहिये का घेरा।
 प्रभत्त—(सं. वि.) उन्मत्त, मतवाला,
 प्रविक्षिप्त, पागल, जिसकी बुद्धि ठिकाने
 न हो, जो सन्ध्या-वन्दन आदि न करता
 हो; (पुं.) एक प्रकार का कौआ;
 -गीत—(पुं.) प्रमादपूर्ण गीत; -ता—
 (स्त्री.) पागलपन।
 मथ—(सं.पुं.) घोटक, घोड़ा, शिव के
 पार्षद या गण विशेष जिनकी संख्या
 छत्तीस करोड़ कही जाती है, घृतराष्ट्र
 के एक पुत्र का नाम।
 प्रमथन—(सं.पुं.) वध, हत्या, मथना,
 जड़ से उखाड़ना, रौंदना, सताना, तिर-
 स्कार, अपमान।
 प्रमथनाथ, प्रमथाधिप—(सं.पुं.) शिव,
 महादेव।
 प्रमथालय—(सं.पुं.) एक नरक का नाम।
 प्रमथित—(सं.पुं.) नवनीत, मक्खन, मट्ठा।
 प्रमद—(सं.पुं.) हर्ष, आनन्द, घृतुरे का
 फल या फूल, वशिष्ठ के एक पुत्र का
 नाम, उन्मत्तता, मतवालापन; (वि.)
 मतवाला; -कानन—(पुं.) राजाओं
 के अन्तःपुर का वगीचा।
 प्रमदा—(सं. स्त्री.) सुन्दर स्त्री, एक
 वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चौदह
 अक्षर होते हैं, देवी का एक नाम;
 -वन—(पुं.) प्रमद-कानन।
 प्रमद्वर—(सं. वि.) असावधान।
 प्रमन्यु—(सं. वि.) बहुत क्रोधी; (पुं.)
 अति क्रोध।
 प्रमय—(सं.पुं.) वध, हिंसा।
 प्रमर्दन—(सं. वि.) अच्छी तरह से रग-
 डनेवाला; (पुं.) एक असुर का नाम,
 अच्छी तरह से मलना, दलना, रौंदना,
 दमन, नष्ट करना।
 प्रमा—(सं.वि.) यथार्थ ज्ञान, शुद्ध बोध, वह
 ज्ञान जिसमें किसी प्रकार का भ्रम न हो।
 प्रमाण—(सं.पुं.) सत्यता, सचाई, निश्चय,
 विष्णु, नित्यता, मर्यादा, शास्त्र, एक अलं-
 कार जिसमें विभिन्न प्रमाणों में से किसी
 एक का वर्णन हो, प्रामाणिक वस्तु, प्रमा,

मूल धन, आदेश, परिमाण; (वि.) सत्य,
 यथार्थ, मान्य, स्वीकार करने योग्य.
 प्रमाणित, चरितार्थ; (अव्य.) पर्यन्त,
 तक।
 प्रमाणकुशल—(सं.वि.) अच्छा तर्क करने-
 वाला।
 प्रमाण-कोटि—(सं. स्त्री.) प्रमाण मानी
 जानेवाली बातों का समुदाय।
 प्रमाणता—(सं.स्त्री.) प्रामाणिक होने का
 भाव या धर्म।
 प्रमाणना—(हिं. क्रि.स.) देखें 'प्रमानना'।
 प्रमाण-पत्र—(सं. पुं.) वह लिखा हुआ
 कागज जिस पर का लेख किसी बात का
 प्रमाण हो।
 प्रमाण-पुरुष—(सं. पुं.) वह जिसके निर्णय
 को मानने के लिये दोनों पक्ष के लोग
 तैयार हों, पंच।
 प्रमाण-लक्षण—(सं.पुं.) वह लक्षण
 जो प्रमाण-सिद्ध हो।
 प्रमाण-वाक्य—(सं.पुं.) न्यायसंगत वाक्य,
 वेद वाक्य।
 प्रमाणांतर—(सं. स्त्री.) अन्य प्रकार का
 प्रमाण।
 प्रमाणिक—(सं. वि.) जो प्रत्यक्ष आदि
 प्रमाणों से सिद्ध हो।
 प्रमाणिका—(सं. स्त्री.) छन्द का एक
 भेद जिसके प्रत्येक चरण में आठ
 अक्षर होते हैं, इसका दूसरा नाम
 नगस्वरूपिणी है।
 प्रमाणित—(सं. वि.) प्रमाण द्वारा सिद्ध,
 सच्चा ठहराया हुआ।
 प्रमाणी—(सं.स्त्री.) प्रमाणिका छन्द।
 प्रमाणीकृत—(सं. वि.) जो प्रमाण रूप में
 स्वीकार किया गया हो।
 प्रमाता—(सं. पुं.) प्रमाणों द्वारा प्रमेय
 के ज्ञान को प्राप्त करनेवाला, ज्ञान
 उत्पन्न करनेवाला, आत्मा, चेतन पुरुष,
 विषयों से भिन्न, विषयों का द्रष्टा, साक्षी;
 (स्त्री.) पिता की माता, दादी; -मह—
 (पुं.) मातामह का पिता, परताना;
 -मही—(स्त्री.) प्रमातामह की पत्नी,
 परतानी।
 प्रमात्व—(सं.पुं.) प्रमा का धर्म या भाव।
 प्रमाथ—(सं.पुं.) मथन, बलपूर्वक हरण,
 मर्दन, नाश करना, दुःख देना, हत्या
 करना, शिव के एक गण का नाम, घृत-
 राष्ट्र के एक पुत्र का नाम, किसी स्त्री
 के साथ बलात्कार।
 प्रमाथी—(सं. वि.) मारनेवाला, पीड़ा
 देनेवाला; (पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र

का नाम, एक राक्षस का नाम।
 प्रमाद—(सं.पुं.) भ्रम, भ्रान्ति, असाव-
 धानी, अन्तःकरण की दुर्बलता, योग-
 शास्त्र के अनुसार समाधि के साधनों
 को झूठ मानना।
 प्रमादिक—(सं.वि.) मूलचूक करनेवाला।
 प्रमादिका—(सं.स्त्री.) वह कन्या जिसका
 किसी ने कौमार्य नष्ट कर दिया हो।
 प्रमादिनी—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का
 नाम।
 प्रमादी—(सं. वि.) असावधानी करने-
 वाला, बावला, पागल।
 प्रमान—(हिं.पुं.) देखें 'प्रमाण'।
 प्रमानना—(हिं. क्रि.स.) प्रमाणित मानना
 या करना, सिद्ध करना, स्थिर करना,
 यथार्थ मानना।
 प्रमानी—(हिं. वि.) प्रमाणिक, प्रमाण
 योग्य, माननीय, मानने योग्य।
 प्रमापण—(सं.पुं.) मारण, नाश।
 प्रमापयिता—(सं. पुं.) घातक, नाश
 करनेवाला।
 प्रमार—(सं. पुं.) राजपूत क्षत्रियों की
 एक उपजाति, देखें 'परमार'।
 प्रमार्जक—(सं. वि.) निर्मल करनेवाला।
 प्रमार्जन—(सं.पुं.) अच्छी तरह से शुद्ध
 करना, झाड़ना-पोंछना, हटाना।
 प्रमित—(सं.वि.) ज्ञात, विदित, निश्चित,
 अल्प, थोड़ा, परिमित, प्रमाणित।
 प्रमिताक्षरा—(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके
 प्रत्येक चरण में बारह अक्षर होते हैं।
 प्रमिताशन—(सं.पुं.) अल्प भोजन।
 प्रमीति—(सं. स्त्री.) मृत्यु, मरण।
 प्रमीलक—(सं.पुं.) शरीर का आलस्य
 या दुर्बलता, झपकी, उँघाई।
 प्रमीलन—(सं.पुं.) निमीलन, आँखें मूंदना।
 प्रमीला—(सं. स्त्री.) तन्द्रा, उँघाई,
 अवसाद, थकावट, ग्लानि, शिथिलता।
 प्रमीली—(सं. वि.) आँखें मूंदनेवाला।
 प्रमुक्ति—(सं. स्त्री.) निर्वाण, मोक्ष।
 प्रमुख—(सं.पुं.) समूह, ढेर, आरम्भ;
 (वि.) मुख्य, प्रधान, पहला, प्रतिष्ठित,
 मान्य; (हिं.अव्य.) इससे आरम्भ करके,
 वगैरह, इत्यादि।
 प्रमुच—(सं. वि.) मुक्ति देनेवाला।
 प्रमुद्—(सं.स्त्री.) अत्यन्त आनन्द; (वि.)
 आनन्दित।
 प्रमुदित—(सं. वि.) आनन्दित, प्रसन्न।
 प्रमुदित-वदना—(सं. स्त्री.) बारह अक्षरों
 का एक वर्णवृत्त जिसको मन्दाकिनी
 भी कहते हैं।

प्रमूषित—(सं.वि.) अपहृत, चुराया हुआ ।
 प्रमूष—(सं. वि.) पण्डित, विद्वान् ।
 प्रमूषट्—(सं. वि.) माजित, धोया हुआ ।
 प्रमेय—(सं. वि.) जो प्रमाण का विषय हो सके, जिसका मान बतलाया जा सके, निर्धारण करने योग्य; (पुं.) यथार्थ ज्ञान का विषय;—त्व—(पुं.) प्रमेय का भाव या धर्म ।
 प्रमेह—(सं. पुं.) एक मूत्र-रोग, बहुमूत्र का रोग, वह रोग जिसमें मूत्र के साथ शरीर की पोषक घातुएँ निकला करती हैं ।
 प्रमेही—(सं. पुं.) प्रमेह का रोगी ।
 प्रमोक्ष—(सं.पुं.) निर्वाण, मुक्ति, छुटकारा ।
 प्रमोचन—(सं.पुं.) मुक्त करना, छुड़ाना ।
 प्रमोद—(सं. पुं.) हर्ष, आनन्द, सुख, कुमार के एक अनुचर का नाम, एक सिद्धि का नाम ।
 प्रमोदक—(सं. पुं.) साठी नाम का धान ।
 प्रमोदन—(सं.पुं.) विष्णु, आनन्द देना ।
 प्रमोदा—(सं.स्त्री.) सांख्य के अनुसार आठ प्रकार की सिद्धियों में से एक जिसमें अधिदैविक दुःखों का नाश हो जाता है ।
 प्रमोदित—(सं. वि.) हर्षित, आनन्दित ।
 प्रमोदी—(सं.वि.) अति प्रसन्न, हर्षजनक ।
 प्रमोह—(सं. पुं.) मूर्च्छा, मोह ।
 प्रमोही—(सं. वि.) मोहजनक ।
 प्रयंक—(हिं. पुं.) देखें 'पर्यंक' ।
 प्रयंत—(हिं. अव्य.) देखें 'पर्यंत' ।
 प्रयत्—(सं. वि.) पवित्र, नम्र, दीन ।
 प्रयत्तात्मा—(सं. वि.) जितेन्द्रिय, संयमी ।
 प्रयत्न—(सं. पुं.) चेष्टा, प्रयास, इष्ट साधन की चेष्टा, कोई काम करने की इच्छा, अंगों की क्रिया या व्यापार, व्याकरण में वर्णों के उच्चारण में होनेवाली एक क्रिया जो दो प्रकार की होती है—मुख से ध्वनि निकलने के पहिले वागिन्द्रियों की क्रिया को आभ्यन्तर प्रयत्न तथा ध्वनि के अन्त की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं ।
 प्रयत्नवान्—(हिं.वि.) प्रयत्न में लगा हुआ ।
 प्रयसा—(सं. स्त्री.) एक राक्षसी जिसको रावण ने सीता को समझाने के लिये नियुक्त किया था ।
 प्रयस्त—(सं. वि.) परिश्रम से किया हुआ ।
 प्रयाग—(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध तीर्थ जो गंगा और यमुना के संगम पर है;—वाल—(पुं.) प्रयाग तीर्थ का पंडा ।
 प्रयाचक—(सं. पुं, वि.) याचना करने-वाला, मांगनेवाला ।

प्रयाचन—(सं. पुं.) याचना, प्रार्थना ।
 प्रयाण—(सं. पुं.) गमन, जाना, युद्ध-यात्रा, चढ़ाई, आरम्भ;—काल—(पुं.) जाने का समय, मृत्युकाल ।
 प्रयात—(सं.पुं.) ऊँचा किनारा, गमन, जाना; (वि.) गया हुआ, मरा हुआ, सोया हुआ ।
 प्रयातव्य—(सं. वि.) चढ़ाई करने योग्य ।
 प्रयास—(सं.पुं.) प्रयत्न, उद्योग, अभ्यास, श्रम ।
 प्रयुक्त—(सं. वि.) अच्छी तरह से जोड़ा हुआ, प्रेरित, लगाया हुआ, जिसका प्रयोग किया गया हो. अच्छी तरह से मिला हुआ ।
 प्रयुक्ति—(सं. स्त्री.) प्रयोजन, प्रयोग ।
 प्रयुज्यमान—(सं. वि.) जिसका प्रयोग किया गया हो ।
 प्रयूत—(सं. पुं.) दस लाख की संख्या; (वि.) सहित, समेत, अस्पष्ट, अच्छी तरह मिला हुआ, दस लाख ।
 प्रयुन्तु—(सं. पुं.) योद्धा, वीर, वायु, इन्द्र, संन्यासी ।
 प्रयोक्ता—(सं. पुं.) प्रयोग या व्यवहार करनेवाला, प्रधान अभिनय करनेवाला, सूत्रधार, ऋण देनेवाला, महाजन ।
 प्रयोग—(सं. पुं.) अनुष्ठान, साधन, किसी काम में लाना या लाया जाना, व्यवहार, क्रिया का साधन, नाटक का खेल, कोई तान्त्रिक उपचार या साधन, दृष्टान्त, धोड़ा, यज्ञ आदि कर्मों की पद्धति, सूद पर रूपया देना, साम, दण्ड आदि उपायों का अवलंबन ।
 प्रयोगातिशय—(सं. पुं.) नाटक की प्रस्तावना का एक भेद ।
 प्रयोगी—(सं. वि.) प्रयोग करनेवाला ।
 प्रयोजक—(सं. वि.) अनुष्ठान करनेवाला, काम में लानेवाला, प्रेरक, प्रदर्शक, प्रबन्ध करनेवाला ।
 प्रयोजन—(सं. पुं.) हेतु, कार्य, काम, कारण, उद्देश्य, अभिप्राय, व्यवहार, उपयोग ।
 प्रयोजनवती लक्षणा—(सं. स्त्री.) वह लक्षणा जो प्रयोजन की सिद्धि के लिए वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रगट करती है ।
 प्रयोजनवान्—(सं.वि.) अभिप्रायरखनवाला ।
 प्रयोजनीय—(सं. वि.) काम का, प्रयोज्य ।
 प्रयोज्य—(सं. वि.) प्रयोग में लाने योग्य, कर्तव्य, काम में लगाये जाने योग्य; (पुं.) मूल-धन, नौकर ।
 प्रराध्य—(सं. वि.) प्रशंसा या आराधना

के योग्य ।
 प्ररुह—(सं. वि.) भूमि उगनेवाला (अंकुर) ।
 प्ररुद्ध—(सं. वि.) प्रवृद्ध, खूब बढ़ा हुआ, उत्पन्न ।
 प्ररोचन—(सं. पुं.) रुचि उत्पन्न करना, उत्तेजित करना, मोहित करना ।
 प्ररोचना—(सं. स्त्री.) उत्तेजना बढ़ाना, रुचि उत्पन्न करने की क्रिया, नाटक की प्रस्तावना का एक अंग जिसमें दर्शकों में रुचि उत्पन्न करने की बात कही जाती है, अभिनय के बीच-बीच में आगे आने-वाली बातों का रुचिकर रूप से कथन ।
 प्ररोह—(सं. पुं.) अंकुर, अँखुआ का, ऊपर, की ओर निकलना ।
 प्ररोहण—(सं. पुं.) उत्पत्ति, आरोह, चढ़ाव, अंकुर का भूमि से निकलना, उगना ।
 प्ररोह-भूमि—(सं. स्त्री.) उचरा भूमि, उपजाऊ खेत ।
 प्ररोहशास्त्री—(सं. पुं.) (ऐसा वृक्ष) जिसकी कलम लगाने से लग जाय ।
 प्रलंब—(सं. पुं.) एक दानव जिसको बलराम ने मारा था, पयोधर, स्तन, शिथिलता, व्यर्थ का विलम्ब, ताड़ का तना, राँगा, अंकुर, अँखुआ, शाखा, डाल, एक प्रकार का हार, प्रलम्बन, लटकाव; (वि.) लम्बवत्, लटका हुआ, निकला हुआ, बढ़ा हुआ, शिथिल ।
 प्रलम्बन—(सं. पुं.) लटकाव, झूलने की क्रिया, अवलम्बन, सहारा लेना ।
 प्रलम्बित—(सं. वि.) लटका हुआ ।
 प्रलंबी—(सं. वि.) आश्रयी, सहारा लेने-वाला, लटकनेवाला ।
 प्रलम्भ—(सं. पुं.) प्राप्ति, लाभ, धोखा ।
 प्रलम्भन—(सं. पुं.) लाभ, छल, धोखा ।
 प्रलयन—(सं. पुं.) अन्तर्धक वात ।
 प्रलयित—(सं. वि.) कथित, कहा हुआ ।
 प्रलयंकर—(सं. वि.) प्रलय करनेवाला ।
 प्रलय—(सं. पुं.) संसार के नाना रूपों का प्रकृति में लीन होकर मिट जाना. कल्पान्त, वैष्णवों के मत से हृदय के सात्त्विक भावों में से एक भाव, साहित्य में सात्त्विक भाव का एक भेद, मूर्च्छा, विलीन होना, लय को प्राप्त होना ।
 प्रलयता—(सं. स्त्री.) प्रलय का धर्म या भाव ।
 प्रलय—(सं. पुं.) खण्ड, टुकड़ा, छोटा अंश ।
 प्रलयण—(सं. पुं.) उपजयाँ फसल काटना ।
 प्रलाप—(सं. पुं.) निरर्थक वात, व्यर्थ की बकवाद, पागलों की-सी बकझक ।
 प्रलापक—(सं.पुं.) सन्निपात ज्वरका एक भेद ।
 प्रलापन—(सं. पुं.) बकवाद, बकझक ।

प्रलापी—(सं. वि.) अंडवंड बकनेवाला ।
 प्रलीन—(सं. वि.) लुप्त, च्छेदाशून्य,
 जड़वत्;—ता—(स्त्री.) प्रलय, नाश ।
 प्रलून—(सं.पुं.) एक प्रकार का कीड़ा;
 (वि.) छिन्न-भिन्न, काटा हुआ ।
 प्रलेप—(सं.पुं.) घाव आदि पर किसी
 औषध का लेप चढ़ाना ।
 प्रलेपक—(सं. वि.) लेप करनेवाला,
 (पुं.) एक प्रकार का पुराना मंद ज्वर ।
 प्रलेपन—(सं. पुं.) लेप करने या पीतने
 की क्रिया ।
 प्रलेहन—(सं. पुं.) जीभ से किसी वस्तु को
 चाटना ।
 प्रलोप—(सं. पुं.) ध्वंस, नाश ।
 प्रलोभ—(सं. पुं.) अति लोभ, लालच ।
 प्रलोभक—(सं. वि.) ललचानेवाला ।
 प्रलोभन—(सं.पुं.) लालच देना, ललचाना ।
 प्रलोभित—(सं. वि.) ललचाया हुआ ।
 प्रलोभी—(सं.वि.) लोभी, लोभ में फँसाने
 वाला ।
 प्रलोलुप—(सं. वि.) बहुत लालची ।
 प्रवंचना—(सं. स्त्री.) धूर्तता, छल, कपट ।
 प्रवक्षता—(सं. पुं.) उपदेश देनेवाला,
 अच्छी तरह समझाकर कहनेवाला ।
 प्रवग—(सं. पुं.) खग, पक्षी ।
 प्रवचन—(सं. पुं.) व्याख्यापूर्वक समझाना,
 वेदांग, व्याख्या ।
 प्रवचनीय—(सं.वि.) समझाकर कहने योग्य ।
 प्रवट—(सं. पुं.) गोघूम, गेहूँ ।
 प्रवण—(सं. वि.) जो क्रमशः नीचा होता
 गया हो, ढालुआँ, आयत, लंबा, उदार,
 आसक्त, क्षीण, विनीत, अनुकूल, नम्र,
 निपुण, नत, झुका हुआ, स्निग्ध; (पुं.)
 उतार, चौराहा, पहाड़ का किनारा,
 आहुति, उदर, पेट ।
 प्रवत्स्यत्पत्तिका—(सं. स्त्री.) वह नायिका
 जिसका पति विदेश जानेवाला हो ।
 प्रवत्स्यत्प्रेयसी—(सं. स्त्री.) देखे 'प्रव-
 त्स्यत्पत्तिका' ।
 प्रवदन—(सं. पुं.) घोषणा ।
 प्रवपण—(सं. पुं.) मूल-दाढ़ी मुड़वाना ।
 प्रवयण—(सं. पुं.) चाबुक, अंकुश ।
 प्रवयस्—(सं.वि.) बुढ़ा, पुरातन, पुराना ।
 प्रवर—(सं. पुं.) अगर की लकड़ी, गोत्र,
 सन्तति, काली मंग; (वि.) श्रेष्ठ,
 मुख्य;—ललिता—(स्त्री.) एक प्रकार
 का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सोलह
 अक्षर होते हैं ।
 प्रवरा—(सं. स्त्री.) अगर की लकड़ी,
 पलाश वृक्ष ।

प्रवर्ग—(सं. पुं.) हवन करने की अग्नि ।
 प्रवर्त—(सं. पुं.) एक प्रकार का गोल
 आमूषण, किसी प्रकार की उत्तेजना,
 कार्यारम्भ, ठानना ।
 प्रवर्तक—(सं.पुं.,वि.) आरम्भ करनेवाला,
 किसी काम को चलानेवाला, प्रवृत्त
 करनेवाला, काम में लगानेवाला, गति
 देनेवाला, न्याय करनेवाला, आविष्कार
 करनेवाला, उसकानेवाला; (पुं.) नाटक
 में प्रस्तावना का वह भेद जिसमें सूत्र-
 धार नाटक के समय का वर्णन करता है ।
 प्रवर्तन—(सं.पुं.) प्रवृत्त करना, कार्य आरम्भ
 करना, ठानना, प्रचार करना, प्रेरित
 करना चलाना, उत्तेजित करना, उसकाना ।
 प्रवर्तना—(सं. स्त्री.) आरम्भ, उत्तेजना,
 उभाड़ना, उसकाना, किसी कार्य में प्रवृत्ति ।
 प्रवर्तित—(सं. वि.) चलाया हुआ, आरंभ
 किया या ठाना हुआ, उभाड़ा हुआ,
 लौटाया हुआ ।
 प्रवर्ती—(सं. वि.) प्रवाहशील, अग्रगामी ।
 प्रवर्धक—(सं. पुं., वि.) वृद्धि करनेवाला ।
 प्रवर्ष—(सं. पुं.) अति वृष्टि ।
 प्रवर्षण—(सं. पुं.) अति वृष्टि, बहुत
 वर्षा, किष्किन्धा के समीप का एक
 पर्वत जिस पर राम, लक्ष्मण और सीता
 न कुछ काल तक निवास किया था ।
 प्रवर्ह—(सं. वि.) श्रेष्ठ, प्रधान ।
 प्रवर्हिका—(सं. स्त्री.) प्रहेलिका, पहेली ।
 प्रवसन—(सं. पुं.) विदेश-गमन ।
 प्रवह—(सं. पुं.) वह कुंड जिसमें से नाली
 द्वारा जल बहता हो, बहाव, सात
 वायुओं में से एक; घर, नगर आदि से
 बाहर निकलना ।
 प्रवहण—(सं. पुं.) यान, सवारी, पोत,
 नाव, कन्या को व्याह देना ।
 प्रवाच्—(सं. वि.) युक्तिपूर्वक बोलनेवाला ।
 प्रवाचक—(सं.पुं.,वि.) अच्छा बोलनेवाला ।
 प्रवाचन—(सं.पुं.) अच्छी तरह से बोलना ।
 प्रवाण—(सं.पुं.) कपड़े का किनारा बनाना ।
 प्रवात—(सं. पुं.) प्रबल वायु ।
 प्रवाद—(सं. पुं.) आपस की बातचीत,
 जनसमाज में प्रसिद्ध बात, अपवाद,
 जनरव, जनश्रुति ।
 प्रवादक—(सं. पुं.) बाजा बजानेवाला ।
 प्रवाश—(सं. वि.) कहने योग्य, प्रकाशित
 करने योग्य ।
 प्रवादी—(सं. पुं., वि.) बोलनेवाला ।
 प्रवार—(सं. पुं.) चादर, दुपट्टा ।
 प्रवारण—(सं. पुं.) निषेध ।
 प्रवाल—(सं. पुं.) विद्रुम, मूंगा ।

प्रवास—(सं. पुं.) विदेश वास, अपना घर
 या देश त्यागकर दूसरे देश में निवास
 करना ।
 प्रवासन—(सं. पुं.) देश या नगर से बाहर
 निकालना, वय ।
 प्रवासित—(सं. वि.) देश से निकाला
 हुआ, हत, मारा हुआ ।
 प्रवासी—(सं. पुं., वि.) परदेश में रहने-
 वाला, परदेशी ।
 प्रवाह—(सं. पुं.) प्रवृत्ति, झुकाव, पानी
 की गति, जल का स्रोत, धारा, बहता
 हुआ पानी, विस्तार, चलता हुआ
 क्रम, कार्य का बराबर चलता रहना ।
 प्रवाहक—(सं. वि.) अच्छी तरह ले जाने-
 वाला ।
 प्रवाहणी—(सं. स्त्री.) मलद्वार की सब से
 ऊपरी कुंडली जो मल को बाहर
 फेंकती है ।
 प्रवाहिका—(सं. स्त्री.) ग्रहणी रोग,
 अतिसार, सदा बहनेवाली नदी ।
 प्रवाहित—(सं. वि.) बहता हुआ, डोया हुआ ।
 प्रवाही—(सं. वि.) बहने या बहान-
 वाला, तरल, द्रव, प्रवाहयुक्त; (स्त्री.)
 बालुका, बालू ।
 प्रविख्याति—(सं. स्त्री.) अति प्रसिद्धि ।
 प्रविचय—(सं.पुं.) परीक्षा, अनुसन्धान, वोज ।
 प्रविचार—(सं. पुं.) उत्तम रूप से विचार ।
 प्रविदारण—(सं. पुं.) युद्ध, लड़ाई ।
 प्रविपल—(सं. पुं.) विपल के साठ भागों में
 से एक भाग ।
 प्रविरल—(सं. वि.) अत्यल्प, बहुत थोड़ा ।
 प्रविवाद—(सं. पुं.) तर्क-वितर्क करना ।
 प्रविपा—(सं. स्त्री.) अतिविपा, अतीस ।
 प्रविष्ट—(सं. वि.) पैठा हुआ, घुसा हुआ ।
 प्रविष्टक—(सं. पुं.) घर में घुसनेवाला ।
 प्रविसना—(हिं. क्रि. अ.) प्रवेश करना,
 घुसना ।
 प्रविस्तार—(सं.पुं.) पर्याप्त चौड़ाई, फैलाव ।
 प्रवीण—(सं. वि.) निपुण, शिक्षित,
 कुशल, चतुर, अच्छा गाने-बजानेवाला;
 —ता—(स्त्री.) कुशलता, चतुराई ।
 प्रवीर—(सं.पुं.,वि.) बड़ा योद्धा, बहादुर;
 —बाहु—(पुं.) एक प्रकार के राक्षस;
 —वर—(पुं.) एक प्रकार के अमूर ।
 प्रवृत्त—(सं. वि.) नियुक्त, रत, लीन,
 किसी काम में लगा हुआ, उताव ।
 प्रवृत्तक—(सं.पुं.) एक मान्यदात का नाम ।
 प्रवृत्ति—(सं. स्त्री.) प्रवाह, बहाव, बर्बाद,
 वृत्तान्त, चित्त का किन्नी और उदर,
 या झुकाव, उत्पत्ति, नास्तिक विषयों

में लगन, नैयायिकों के मत से एक यत्न विशेष, हाथी का मद ।
 प्रवृद्ध—(सं. वि.) प्रौढ़, अत्यन्त पका हुआ। अच्छी तरह से बढ़ा हुआ; (पुं.) तलवार के बत्तीस हाथों में से एक ।
 प्रवृद्धि—(सं. स्त्री.) उन्नति ।
 प्रवेता—(सं.पुं.) रथ हाँकनवाला, सारथी ।
 प्रवेद—(सं.पुं.) अच्छी समझ ।
 प्रवेदन—(सं.पुं.) ज्ञापन, घोषणा ।
 प्रवेप—(सं.पुं.) कम्पन, कंपकंपी ।
 प्रवेरित—(सं.वि.) इधर-उधर फेंका हुआ ।
 प्रवेश—(सं.पुं.) पैठ, पहुँच, भीतर जाना, घुसना, किसी विषय की जानकारी ।
 प्रवेशक—(सं.पुं.) नाटक के अभिनय में वह स्थल जहाँ कोई पात्र अपने वार्तालाप से दो अंकों के बीच की घटनाओं का परिचय देता है ।
 प्रवेशना—(हिं. क्रि. अ.) प्रवेश करना ।
 प्रवेशनीय—(सं. वि.) घुसने योग्य ।
 प्रवेशिका—(सं.स्त्री.) प्रवेश के लिये दिया जानेवाला धन, वह पत्र, चिह्न आदि जिसको दिखलाकर कोई कहीं प्रवेश पा सकता है, माध्यमिक परीक्षा विशेष ।
 प्रवेशित—(सं.वि.) घुसाया या पैठाया हुआ ।
 प्रवेश्य—(सं. वि.) घुसने योग्य ।
 प्रवेष्ट—(सं.पुं.) बाहु का निचला भाग ।
 प्रवेष्टक—(सं.पुं.) दक्षिण बाहु, दाहिना हाथ ।
 प्रबोध—(सं.पुं.) ज्ञान, समझ ।
 प्रब्रजन—(सं.पुं.) संन्यास ।
 प्रब्रजिता—(सं.स्त्री.) जटामासी, गोरखमुंडी ।
 प्रब्रज्य—(सं.स्त्री.) संन्यास ।
 प्रब्राज—(सं.पुं.) बहुत नीची भूमि, संन्यास ।
 प्रब्राजित—(सं. वि.) निर्वासित, देवा से निकाला हुआ ।
 प्रशंस—(हिं. वि.) प्रशंसा के योग्य; (स्त्री.) प्रशंसा ।
 प्रशंसक—(सं.पुं., वि.) बखान, प्रशंसा या स्तुति करनेवाला ।
 प्रशंसन—(सं.पुं.) गुणकीर्तन, गुणों का वर्णन करते हुए स्तुति करना, सराहना, धन्यवाद ।
 प्रशंसना—(हिं. क्रि. स.) गुणानुवाद करना, प्रशंसा या स्तुति करना ।
 प्रशंसनीय—(सं. वि.) प्रशंसा के योग्य ।
 प्रशंसा—(सं.स्त्री.) प्रशंसन, बड़ाई, स्तुति ।
 प्रशंसित—(सं. वि.) जिसकी प्रशंसा की गई हो, सराहा हुआ ।
 प्रशंसोपमा—(सं. स्त्री.) वह अर्थालंकार जिसमें उपमेय की अधिक प्रशंसा करके उपमान की बड़ाई दिखलाई जाती है ।

प्रशंस्य—(सं. वि.) प्रशंसनीय ।
 प्रशम—(सं. पुं.) उपशमन, शान्ति ।
 प्रशमन—(सं. स्त्री.) मारण, वव, शमन, शान्ति, स्थिर करना, वश में लाना ।
 प्रशम्य—(सं. वि.) शान्त करने योग्य ।
 प्रशस्त—(सं. वि.) प्रशंसनीय, मनोहर, श्रेष्ठ, उत्तम; (पुं.) क्षेम, कुशल;—पाद—(पुं.) एक प्रसिद्ध नैयायिक जिन्होंने वैशेषिक सूत्र की टीका लिखी है ।
 प्रशस्ति—(सं. स्त्री.) प्रशंसा, स्तुति, वह प्रशंसापूचक वाक्य जो किसी को पत्र लिखते समय पत्र के आदि में लिखा जाता है, सिरनामा, राजा के वे आज्ञापत्र जो प्राचीन समय में पत्थरों, चट्टानों या ताम्रपत्रों पर खोदे जाते थे, प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों के आदि और अन्त की कुछ पंक्तियाँ जिनमें पुस्तक के कर्ता, विषय, काल आदि का वर्णन रहता था;—कृत—(वि.) प्रशंसा करनेवाला ।
 प्रशस्य—(सं. वि.) प्रशंसनीय, श्रेष्ठ, उत्तम ।
 प्रशांत—(सं. वि.) स्थिर, चंचलतारहित, शान्त, निश्चल वृत्ति का; (पुं.) एक महासागर जो एशिया और अमेरिका के बीच में है;—ता—(स्त्री.) निश्चलता, शान्ति ।
 प्रशांतात्मा—(सं. पुं.) शिव, महादेव, प्रशांत स्वभाववाला ।
 प्रशाखा—(सं. स्त्री.) शाखा में से निकली हुई शाखा, टहनी ।
 प्रशासक—(सं. वि.) प्रशासन करनेवाला ।
 प्रशासन—(सं. पुं.) राज्य के शासन की कार्यकारिणी व्यवस्था ।
 प्रशासित—(सं. वि.) प्रशासन के अंतर्गत, शिक्षित, संयमित ।
 प्रशास्ता—(सं. पुं.) शासनकर्ता ।
 प्रशिथिल—(सं. वि.) अति शिथिल, बहुत थका हुआ ।
 प्रशिष्य—(सं. पुं.) शिष्य का शिष्य ।
 प्रशोष—(सं. पुं.) शुष्क होना, सोखना ।
 प्रशोषण—(सं. पुं.) सोखना, सुखाना ।
 प्रश्न—(सं. पुं.) जिज्ञासा, पूछने की बात, विचारणीय विषय, एक उपनिषद् का नाम ।
 प्रश्नदूती—(सं. पुं.) प्रहेलिका, पहेली, बुझावल ।
 प्रश्नि—(सं. स्त्री.) एक ऋषि का नाम, जलकुम्भी ।
 प्रश्नोत्तर—(सं. पुं.) प्रश्न और उत्तर, वह काव्यालंकार जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों रहते हैं ।

प्रश्रय—(सं. पुं.) विनय, आश्रय, स्थान, सहारा, टेक, एक देवता का नाम ।
 प्रश्रयण—(सं.पुं.) विनय, शिष्टाचार ।
 प्रश्रयी—(सं. वि.) शान्त, नम्र, विनीत ।
 प्रश्लिष्ट—(सं.वि.) अच्छी तरह से संबद्ध ।
 प्रश्लेष—(सं. पुं.) व्याकरण की सन्धि में स्वरों का परस्पर मिल जाना ।
 प्रश्वस्त—(सं.पुं.) साँस बाहर निकालना, वह वायु जो नाक से बाहर निकलती है ।
 प्रष्टव्य—(सं. वि.) पूछने योग्य ।
 प्रष्टा—(सं. पुं.) प्रश्नकर्ता, पूछनेवाला ।
 प्रष्टि—(सं. पुं.) तीन बँलों की गाड़ी में वह बँल जो आगे जोता जाता है, तिपाई ।
 प्रसंध्या—(सं. स्त्री.) चिन्ता, ध्यान ।
 प्रसंग—(सं. पुं.) घनिष्ठ संबंध, मेल, हेतु, कारण, प्रस्ताव, मैथुन, अनुरक्ति, लगन, क्रमबद्ध संबंध, व्याप्ति-रूप-सम्बन्ध; प्रकरण, अर्थ आदि की संगति, विस्तार;—सम—(पुं.) न्याय में एक प्रकार का प्रतिषेध या कुतर्क ।
 प्रसंसना—(हिं. क्रि. स.) बड़ाई करना ।
 प्रसक्त—(सं. वि.) संबद्ध, आसक्त, संश्लिष्ट, लगा हुआ, मिला हुआ ।
 प्रसक्ति—(सं.स्त्री.) प्रसंग, अनुमिति, आपत्ति ।
 प्रसत्ति—(सं. स्त्री.) निर्मलता, शुद्धि ।
 प्रसन्न—(सं. वि.) सन्तुष्ट, निर्मल, स्वच्छ, अनुकूल, खुश; (पुं.) महादेव, शिव ।
 प्रसन्नता—(सं. स्त्री.) अनुग्रह, कृपा, हर्ष, आनन्द, प्रफुल्लता, निर्मलता, स्वच्छता ।
 प्रसन्नमुख—(सं. वि.) जिसकी आकृति से प्रसन्नता टपकती हो ।
 प्रसन्नोद्व—(सं.पुं.) घोड़े का एक नेत्र रोग ।
 प्रसन्नात्मा—(सं. वि.) जो सदा प्रसन्न रहता हो; (पुं.) विष्णु ।
 प्रसन्नित—(हिं. वि.) देखें 'प्रसन्न' ।
 प्रसभ—(सं. पुं.) बलात्कार ।
 प्रसर—(सं.पुं.) विस्तार, फैलाव, वेग, समूह, व्याप्ति, साहस, वीरता, उत्पत्ति, प्रेम ।
 प्रसरण—(सं. पुं.) सेना का इधर-उधर फैलना, आगे बढ़ना, फैलाव, उत्पत्ति, व्याप्ति, विस्तार ।
 प्रसरित—(सं. वि.) विस्तृत, फैला हुआ, आगे बढ़ा हुआ ।
 प्रसजन—(सं. वि.) गिराना, डालना ।
 प्रसर्पण—(सं.पुं.) फैलाव, घुसना, पैटना ।
 प्रसर्पी—(सं. वि.) गतिशील, रंगनेवाला ।
 प्रसव—(सं. पुं.) वच्चा जनने की क्रिया, प्रसूति, जन्य, उत्पत्ति, सन्तान, आज्ञा ।
 प्रसवन—(सं.पुं.) वच्चा जनना, गर्भपात ।
 प्रसवना—(हिं. क्रि. अ.,स.) उत्पन्न होना,

प्रभव करना ।

प्रसव-वेदना—(सं. स्त्री.) वह पीड़ा जो वच्चा जनने के समय होती है ।

प्रसविता—(सं.पुं.) जन्म देनेवाला, उत्पन्न करनेवाला, पिता, बाप ।

प्रसवित्री—(सं.स्त्री.) जन्म देनेवाली, माता ।

प्रसविनी—(सं.वि., स्त्री.) जन्म देनेवाली, माता ।

प्रसव्य—(सं. वि.) प्रतिकूल, वायां; (पुं.) वाईं ओर से परिक्रमा करना ।

प्रसहन—(सं.पुं.) सहन, धामा, आलिंगन ।

प्रसातिका—(सं.स्त्री.) साँवां नाम का अन्न ।

प्रसाद—(सं. पुं.) प्रसन्नता, स्वच्छता, कृपा, अनुग्रह, स्वास्थ्य, गुरुजन आदि के खाने के बाद बची हुई वस्तु जो काम में लाई जाय, वह पदार्थ जिसको देवता या बड़े लोग प्रसन्न होकर अपने भक्तों या सेवकों को दें, देवता को चढ़ाने की वस्तु, काव्य का गुण विशेष, वह सुबोध भाषा जिसको मुनते ही भाव समझ में आ जाय, अष्टदालकारके अन्त-गंत एक वृत्ति, धर्म की पत्नी मूर्ति से उत्पन्न एक पुत्र ।

प्रसादक—(सं. वि.) निमल या प्रसन्न करनेवाला; (पुं.) प्रसाद ।

प्रसादन—(सं.वि., पुं.) प्रसन्न करनेवाला, प्रसन्नता देनेवाला, प्रसन्न करना ।

प्रसादना—(सं. स्त्री.) परिचर्या, सेवा ।

प्रसादनीय—(सं. वि.) प्रसन्न करने योग्य ।

प्रसादान्न—(सं. पुं.) देवता का प्रसाद-रूप अन्न ।

प्रसादी—(हि. स्त्री.) नैवेद्य, देवताओं को चढ़ाया हुआ पदार्थ, वह पदार्थ जो बड़ा छोटे को देता हो ।

प्रसापक—(सं. वि.) सम्पादन करनेवाला, राजाओं को कपड़ा, गहना आदि पहनानेवाला ।

प्रसाधन—(सं. पुं.) अलंकार, शृंगार, वेग ।

प्रसाधनी—(सं. स्त्री.) कपो ।

प्रसाधित—(सं.वि.) अलंकृत, सजाया हुआ ।

प्रसार—(सं.पुं.) विस्तार, फैलाव, इतर-उपर जाना, निर्गम, निकाल, गंगार ।

प्रसारना—(हि. वि. स.) फैलाना ।

प्रसारण—(सं.पुं.) विस्तारकरण, फैलाना, पसारना, सजाना ।

प्रसारित—(सं. वि.) विस्तारित, फैलाया हुआ ।

प्रसारिणी—(सं. स्त्री.) प्रसार, सजानेवाली ।

प्रसारो—(सं. वि.) फैलानेवाला ।

वसित—(सं. पुं.) घोर, भयानक ।

प्रसिति—(सं. स्त्री.) प्रसन्न, प्रसन्न ।

प्रसिद्ध—(सं. वि.) विख्यात, अलंकृत, विनूषित, सजाया हुआ;—सा—(स्त्री.) प्रसिद्ध होने का भाव ।

प्रसिद्धि—(सं. स्त्री.) श्याक्ति, सिंगार ।

प्रसृत—(सं.वि.) दबाया या निचोड़ा हुआ ।

प्रसृप्त—(सं. वि.) निद्रित, सोया हुआ ।

प्रसृप्ति—(सं. स्त्री.) घोर निद्रा, गहरी नींद ।

प्रसू—(सं. स्त्री.) माता, जननी, घोड़ी, कला; (वि.स्त्री.) उत्पन्न करनेवाली ।

प्रसूका—(सं. स्त्री.) घोड़ी, असगन्ध ।

प्रसूत—(सं. वि.) संजात, उत्पन्न; (पुं.) कुमुम, फूल, स्त्रियों का एक रोग जो प्रसव के बाद होता है; एक रोग जिसमें हाथ-पैर से पसीना छूटता है ।

प्रसूता—(सं.स्त्री.) सद्यः जननेवाली स्त्री ।

प्रसूति—(सं. स्त्री.) प्रसव, जनन, उद्भव, तनय, बेटा, बेटो, सन्तान, कारण, उत्पत्ति-स्थान, दध प्रजापति की स्त्री का नाम, वह जिसने सद्यः प्रसव किया हो ।

प्रसूतिका—(सं. स्त्री.) प्रसूता ।

प्रसून—(सं.पुं.) पुष्प, फूल, मदार का वृक्ष ।

प्रसूनक—(सं. पुं.) मुकुल, कली, फूल ।

प्रसूनवाण, प्रसूनपु—(सं. पुं.) कन्दर्प, कामदेव ।

प्रस्त—(सं. वि.) बड़ा हुआ, फैला हुआ, नियुक्त, तयार, सजा हुआ, गया हुआ; (पुं.) हथेली भर का मान, गहरी की हुई हथेली, पसर ।

प्रस्तता—(सं. स्त्री.) जपा, जाँप ।

प्रस्तति—(सं. स्त्री.) विस्तार, फैलाव, सन्निधि, सोलह सोलह का परिमाण ।

प्रस्तुष्ट—(सं. वि.) परित्यक्त, छोड़ा हुआ, दुःखित ।

प्रस्तक—(सं. पुं.) सैफला, गिलोह, छिद्र-काव, एक अस्वास्थ्य रोग, पसेव ।

प्रसेद—(हि. पुं.) प्रसेद, परांजा ।

प्रसेदिका—(सं. स्त्री.) छोटा कपोला ।

प्रसेय—(सं.पुं.) धीन की तुषी, कपड़े की धैली ।

प्रसेयर—(सं.पुं.) कपड़े या कपड़े का पैसा, योग्य की तुषी ।

प्रस्त्रेड—(सं. पुं.) शिरोचक्र, अग्निमार रोग, शिर, महाशिर ।

प्रस्त्रेदिका—(सं. स्त्री.) संस्त्रेदी रोग ।

प्रस्त्रेदन—(सं. पुं.) पस, शिरार ।

प्रस्त्रार—(सं. पुं.) शिर, पस, शिर, शिरावत्, समर की धैली, प्रस्त्रार, समान, एक काट का नाम ।

प्रस्त्रारण—(सं. पुं.) शिरारण, शिरारण ।

प्रस्त्रारिणी—(सं. स्त्री.) शिरारिणी, शिरारिणी ।

प्रस्तरोपल—(सं. पुं.) चन्द्रकान्त मणि ।

प्रस्तव—(सं. पुं.) स्तुति, प्रशंसा, प्रभाव ।

प्रस्तात्र—(सं. पुं.) पुराणा चावत् ।

प्रस्तार—(सं.पुं.) पास का जंगल, पत्तों का बिछोना, विस्तार, फैलाव, वृद्धि, परत, सोड़ी, समतल भूमि, छन्दःशास्त्र के अनुसार वह विधि जिसने छन्दों के मेट की संख्याओं और स्त्यों का ज्ञान होता है ।

प्रस्ताय—(सं. पुं.) अवसर, प्रकरण, छिड़ी हुई बात, चर्चा, मन्ना के सामने उपस्थित की हुई बात या विषय, परिचय, नृनिष्ठा ।

प्रस्तावक—(सं. पुं.) प्रस्ताव करनेवाला ।

प्रस्तावन—(सं. पुं.) प्रस्ताव करने की क्रिया ।

प्रस्तावना—(सं. स्त्री.) आरम्भ, कर्त्तव्य-ज्ञात, वह प्रसंग जो नाट्यकार में अभिनय के पूर्व कथा-रस्यु का परिचय देने के लिये कहा जाता है ।

प्रस्तावित—(सं. वि.) जिसको लिये प्रस्ताव किया गया हो ।

प्रस्तुत—(सं. वि.) उपयुक्त, योग्य, प्राण, उद्यत, तैयार, प्रस्तारण-युक्त, श्रिगणी प्रयोग की गई हो, जो किया गया हो, जो कहा गया हो ।

प्रस्तुतलंकार—(सं. पुं.) यह प्रस्तुतार जिसमें एक प्रस्तुत विषय के संबंध में कोई बात कहकर उभक्त आशय दूसरे प्रस्तुत विषय पर पटाया जाता है ।

प्रस्तुति—(सं. स्त्री.) प्रस्तावना, प्रशंसा, स्तुति, म्मति ।

प्रस्थ—(सं. पुं.) प्राचीन काल का एक मान जो प्रायः एक शौच का मोलदर्शी भाव माना जाता था, पहाड़ का ऊँचा चिनारा, विस्तार, फैलाव ।

प्रस्थपुण्य—(सं. पुं.) छोटे पत्तों की तुषी, जेसारी मोड़ ।

प्रस्थान—(सं. पुं.) मार्ग, गमन, पसरने के लिये आदि जिसको काल का सुखी न मिलने पर शौच माना की शिरा में शिरा के मर मर शरीर में और शरीर पर जो समस्त शरीर के को है;—प्रस्थी—(स्त्री) प्रस्थान, उपनिषद और शौच ।

प्रस्थानी—(हि. वि.) प्रस्थान करनेवाला, मार्गदर्शी ।

प्रस्थारण—(सं. पुं.) प्रस्थान, प्रस्थान करनेवाला, प्रस्थान ।

प्रस्थारिणी—(सं. स्त्री) प्रस्थार, प्रस्थारिणी ।

प्रस्थारो—(सं. पुं.) प्रस्थान करनेवाला ।

प्रस्थारिणी—(सं. स्त्री) प्रस्थारिणी, प्रस्थारिणी ।

करनेवाला हो ।

प्रस्थिका—(सं.स्त्री.) आमड़ा, पुदीना ।
 प्रस्थित—(सं.वि.) जो जाने को तैयार हो,
 जो गया हो, स्थिर, ठहरा हुआ, दृढ़ ।
 प्रस्थिति—(सं.स्त्री.) प्रस्थान, यात्रा ।
 प्रस्निग्ध—(सं.वि.) तेल लगा हुआ ।
 प्रस्तुपा—(सं.स्त्री.) नतोहू, पोते की स्त्री ।
 प्रस्फुट, प्रस्फुटित—(सं.वि.) प्रकट, खिला
 हुआ ।
 प्रस्फुरण—(सं.पुं.) प्रकाशित होना ।
 प्रस्फोटन—(सं.पुं.) सूर्य, सूप, फूटना,
 विकसित होना, फटकना, गोले आदि
 का एकाएक फूटना या खुलना जिससे
 उसके भीतर का पदार्थ वेग से बाहर
 निकल जाता है ।
 प्रस्रव—(सं.पुं.) झरना, बहना ।
 प्रस्रवण—(सं.पुं.) स्वेद, पसीना, किसी
 स्थान से निकलकर बहता हुआ पानी,
 सोता, झरना, दूध, मूत्र ।
 प्रलाव—(सं.पुं.) लगातार बहना, मूत्र ।
 प्रलुप्त—(सं.वि.) झड़ा हुआ, गिरा हुआ ।
 प्रस्वन—(सं.पुं.) गोर का शब्द ।
 प्रस्वाप—(सं.पुं.) गैस, दवा आदि जिसके
 प्रयोग से निद्रा आ जाती है ।
 प्रस्वेद—(सं.पुं.) घर्म, पसीना ।
 प्रहंता—(सं.पुं.) मारनेवाला ।
 प्रहत—(सं.वि.) प्रताड़ित, पीटा हुआ,
 प्रसारित, फैलाया हुआ; (पुं.) प्रहार ।
 प्रहर—(सं.पुं.) दिन-रात के आठ भागों
 में से एक भाग, तीन घंटे का समय ।
 प्रहरक—(सं.पुं.) पहरेदार या प्रहरी,
 जो घंटा बजाता हो ।
 प्रहरखना—(हि.क्रि.अ.) आनन्दित होना ।
 प्रहरण—(सं.पुं.) मारना, फेंकना, हटाना,
 हरण करना, छीनना; -कलिका—(स्त्री.)
 चौदह अक्षरों का एक वर्णवृत्त ।
 प्रहरणीय—(सं.वि.) हरण करने योग्य ।
 प्रहरी—(सं.पुं.) पहर-पहर पर घंटा
 बजानेवाला, पहरा देनेवाला, चौकीदार ।
 प्रहर्ता—(सं.पुं.) प्रहार करनेवाला, योद्धा ।
 प्रहर्ष—(सं.पुं.) हर्ष, अत्यन्त आनन्द ।
 प्रहर्षण—(सं.पुं.) बुध ग्रह, आनन्द, एक
 अलंकार जिसमें विना प्रयत्न के किसी
 वाञ्छित पदार्थ की प्राप्ति का वर्णन होता
 है; (वि.) हर्ष उत्पन्न करनेवाला ।
 प्रहर्षणी—(सं.स्त्री.) हरिद्रा, हलदी, एक
 वर्णवृत्त का नाम ।
 प्रहसत—(सं.पुं.) हास, परिहास, रूपक
 का एक अंग, व्यंग्योक्ति, चुहल, खिल्ली ।
 प्रहाण—(सं.पुं.) परित्याग, चित्त की

एकाग्रता ।

प्रहार—(सं.पुं.) आघात, चोट, वार ।
 प्रहारक—(सं.पुं.) प्रहारी, मारनेवाला ।
 प्रहारना—(हि.क्रि.सं.) आघात पहुँचाना,
 मारना ।
 प्रहारित—(सं.वि.) जिस पर प्रहार किया
 गया हो ।
 प्रहारी—(सं.पुं.,वि.) प्रहार करनेवाला,
 मारनेवाला, नष्ट करनेवाला, अस्त्र
 फेंकनेवाला; (पुं.) एक राक्षस का नाम ।
 प्रहार्य—(सं.वि.) प्रहार या हरण करने योग्य ।
 प्रहास—(सं.पुं.) जोर की हँसी, ठहाका,
 शिव, कार्तिकेय के अनुचर का नाम ।
 प्रहासक, प्रहासी—(सं.पुं.) मसखरा,
 हँसानेवाला ।
 प्रहित—(सं.वि.) प्रेरित, उभकाया हुआ,
 फेंका हुआ ।
 प्रहत—(सं.वि.) फेंका हुआ, मारा हुआ ।
 प्रहृष्ट—(सं.वि.) अत्यन्त प्रसन्न ।
 प्रहेणक, प्रहेलक—(सं.पुं.) लपसी ।
 प्रहेलिका—(सं.स्त्री.) कूटार्थ, पहेली ।
 प्रह्लास—(सं.पुं.) क्षय, नाश ।
 प्रह्लाद—(सं.पुं.) दैत्यपति हिरण्यकशिपु
 के पुत्र जो विष्णु के बड़े भक्त थे, आनन्द,
 आमोद ।
 प्रह्लादक—(सं.वि.) आनन्दकर ।
 प्रह्लादन—(सं.पुं.) प्रसन्न करना ।
 प्रह्लादिनी—(सं.स्त्री.) लाल लाजवन्ती ।
 प्रह्व—(सं.वि.) नम्र, विनीत ।
 प्रह्वण—(सं.पुं.) विनीतभाव से झुकना ।
 प्रांग—(सं.पुं.) छोटा नगाड़ा ।
 प्रांगण—(सं.पुं.) एक प्रकार का ढोल,
 घर के बीच का खुला हुआ स्थान, अँगन ।
 प्रांजल—(सं.वि.) सरल; सीधा, सच्चा ।
 प्रांजलि—(सं.वि.) जो अंजली बाँधें हो;
 (स्त्री.) बढ़ांजलि ।
 प्रांत—(सं.पुं.) अन्त, किनारा, दिशा,
 प्रदेश; -ग—(वि.) सीमा प्रदेश पर
 रहनेवाला; -भूमि—(स्त्री.) सोपान,
 सीढ़ी, योगशास्त्र के अनुसार समाधि ।
 प्रांतिर—(सं.पुं.) वन, जंगल, दो गाँवों के
 बीच की भूमि, वृक्ष का खोखला भाग ।
 प्रांतिक, प्रांतोय—(सं.वि.) प्रान्त-संबंधी ।
 प्रांश—(सं.वि.) ऊँचा; (पुं.) विष्णु ।
 प्रांशु—(सं.वि.) उच्च, उन्नत; -ता—
 (स्त्री.) उच्चता, ऊँचापन ।
 प्राकषिक—(सं.पुं.) स्त्रियों के बीच में
 नाचनेवाला मनुष्य, रंडियों का दलाल ।
 प्राकाम्य—(सं.पुं.) आठ प्रकार की
 सिद्धियों में से एक ।

प्राकार—(सं.पुं.) प्राचीर, चहारदीवारी ।
 प्राकाश्य—(सं.पुं.) ख्याति, प्रसिद्धि ।
 प्राकृत—(सं.वि.) नीच, प्रकृति से उत्पन्न,
 स्वाभाविक, लौकिक, संसारी, साधारण;
 (स्त्री.) बोलचाल की वह भाषा जिसका
 प्रचार किसी समय प्रांत विशेष में हो,
 एक भाषा जिसका प्रचार प्राचीन
 समय में भारतवर्ष में था, (बहुत से पंडितों
 का मत है कि प्राकृत भाषा से ही संस्कृत
 भाषा निकली है); -ज्वर—(पुं.) ऋतु
 के प्रभाव से होनेवाला ज्वर; -तंत्र—
 (पुं.) प्रजा के हस्तगत राज्यशासन,
 प्रजातन्त्र; -मित्र—(पुं.) जिसके साथ
 स्वाभाविक मित्रता हो; -शत्रु—(पुं.)
 स्वाभाविक शत्रु; -समाज—(पुं.)
 साधारण जन-समाज ।
 प्राकृतिक—(सं.वि.) प्रकृति-संबंधी,
 स्वाभाविक, साधारण, जो प्रकृति से
 उत्पन्न हो, सांसारिक, लौकिक;
 -इतिवृत्त—(पुं.) वह शास्त्र जिसमें सृष्टि
 (प्राकृतिक) पदार्थों के स्वरूप, उत्पत्ति
 आदि का विवेचन हो; -भूगोल—(पुं.)
 भूगोल विद्या का वह अंग जिसमें
 समुद्र, पर्वत, नदी आदि का विवेचन
 किया जाता है; -विज्ञान—(पुं.) वह
 शास्त्र जिसमें प्राकृतिक सृष्टि-विषयक
 मूल कारणों आदि का विवेचन होता है ।
 प्राक्—(सं.वि.) पहिले का, अगला; (पुं.)
 पूर्व दिशा, पूरव; -केवल—(वि.) जो
 पहले से ही भिन्न रूप में प्रकट रहा
 हो; -छाय—(पुं.) वह समय जब छाया
 पूर्व की ओर पड़ती हो; -सन—(वि.)
 प्राचीन, पुराना; -फल—(पुं.) पनस,
 कटहल; -संध्या—(स्त्री.) सूर्योदय के
 समय का काल, प्रातःकाल, सवेरा ।
 प्राख्य—(सं.पुं.) प्रखरता, तीक्ष्णता ।
 प्रागभाव—(सं.पुं.) अपनी उत्पत्ति के पहले
 कार्य का अपने कारण में अभाव या न
 रहना ।
 प्रागल्भ्य—(सं.पुं.) निर्भयता, साहस,
 वीरता, वृष्टता; प्रबलता, घमंड, चतुराई ।
 प्राग्वित्त—(सं.स्त्री.) पूर्वोक्ति, पूर्वकथन ।
 प्रागुत्तरा—(सं.स्त्री.) पूर्व और उत्तर के
 बीच की दिशा ।
 प्राग्यामी—(सं.वि.) अग्रगामी, पूर्वगामी ।
 प्राग्जन्म—(सं.पुं.) पूर्व-जन्म ।
 प्राज्योत्तिष—(सं.पुं.) कामरूप देश,
 कामाल्या देश, -पुर—(पुं.) इस देश
 की राजधानी जो आजकल गोहाटी के
 नाम से प्रसिद्ध है ।

प्राग्द्वार—(सं. पुं.) पूरव की ओर का दरवाजा ।
 प्राग्भाग—(सं. पुं.) अग्रभाग ।
 प्राग्भार—(सं. पुं.) पर्वत का अगला भाग ।
 प्राग्वत्—(सं. अव्य.) पहले के समान ।
 प्राघात—(सं. पुं.) युद्ध ।
 प्राघुण—(सं. पुं.) पाहुन, अतिथि ।
 प्राचार्य—(सं. पुं.) गुरु, शिक्षक, आचार्य, पण्डित ।
 प्राचिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की विषैली मक्खी ।
 प्राची—(सं. स्त्री.) पूर्व दिशा, पूरव ।
 प्राचीन—(सं. वि.) पूर्व देश का, पहिले का, वृद्ध, बुढ़ा, पुरातन, पुराना; (पुं.) प्राचीर; -ता—(स्त्री.) पुराना होने का भाव, पुरानापन; -तिलक—(पुं.) चन्द्रमा; -त्व—(पुं.) पुरानापन, प्राचीनता; -शाला—(पुं.) पुराना घर ।
 प्राचीपति—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 प्राचीर—(सं. पुं.) परकोटा ।
 प्राचुर्य—(सं. पुं.) प्रचुरता, बहुतायत ।
 प्राचेतस—(सं. पुं.) वाल्मीकि मुनि का नाम, विष्णु, वरुण के पुत्र का नाम ।
 प्राच्छित्त—(हिं. पुं.) देखें 'प्रायश्चित्त' ।
 प्राच्य—(सं. पुं.) पूर्व देश; (वि.) पूर्व दिशा में उत्पन्न, पूरबी, पूर्व काल का, पुराना; -वृत्ति—(स्त्री.) वेतालीय वृत्त (छन्द) के एक भेद का नाम ।
 प्राज्ञ—(सं. पुं.) कोड़ा, चाबुक ।
 प्राज्ञापत्य—(सं. पुं.) बारह दिनों के एक व्रत का नाम, रोहिणी नक्षत्र, आठ प्रकार के विवाहों में से एक जिसमें पिता कन्या को अलंकृत करके वर को दान देता है, प्रजापति के पुत्र; (वि.) प्रजापति से उत्पन्न, प्रजापति-संबंधी ।
 प्राज्ञिक—(सं. पुं.) श्येन, बाज पक्षी ।
 प्राज्ञ—(सं. पुं.) वेदान्त के अनुसार जीवात्मा; (वि.) बुद्धिमान्, चतुर, पण्डित, समझदार; -त्व—(पुं.) बुद्धि, मत्ता, पाण्डित्य ।
 प्राज्ञा—(सं. स्त्री.) बुद्धिसती, विदुषी, सूर्य की पत्नी का नाम ।
 प्राज्य—(सं. वि.) प्रचुर, अधिक, बहुत, जिस खाद्य पदार्थ में बहुत घी पड़ा हो ।
 प्राण—(सं. पुं.) ब्रह्म, ब्रह्मा, वायु, हवा, श्वास, शक्ति, पुराण के अनुसार एक कल्प का नाम, जीवन, जान, अग्नि, परम प्रिय व्यक्ति, घाता के पुत्र का नाम, विष्णु, देहस्थित वायु जिससे प्राणी जीवित रहता है; काल का वह भाग जिसमें दस दीर्घ

मानाओं का उच्चारण हो सके; (मुहा.) -उड़ जाना—बहुत घबड़ा जाना या डर जाना; -का गले तक आ जाना—मृत्यु का समीप आ जाना; -छोड़ना—मरना; -जाना या निकलना—मृत्यु होना; -डालना—जीवन प्रदान करना; -देना—मर जाना; -निकलना—मर जाना; -लेना—मार डालना; -हारना—साहस छोड़ देना; किसी पर प्राण देना—किसी को प्राण से अधिक चाहना; प्राणों पर बीतना—बड़े संकट में पड़ना; -क—(पुं.) प्राणिमात्र, जीवक वृक्ष; -कर—(वि.) शक्तिवर्धक; -कण्ठ—(पुं.) बहुत बड़ा कण्ठ या दुःख; -कांत—(पुं.) प्रिय व्यक्ति, पति, स्वामी; -घात—(पुं.) हत्या, वध; -घ्न—(वि.) प्राण लेनेवाला; -जीवन—(पुं.) परम प्रिय व्यक्ति, अत्यन्त प्रिय पुत्र, विष्णु; -त्याग—(पुं.) प्राण का परित्याग, मरना; -द—(पुं.) जल, पानी, रुधिर, विष्णु; (वि.) प्राण की रक्षा करनेवाला; -दा—(स्त्री.) हरितकी हरें; -दाता—(पुं.) जीवन देनेवाला; -दान—(पुं.) जीवनदान, किसी को मरने या मारे जाने से बचाना; -द्रोह—(पुं.) प्राणहत्या; -घ्न—(पुं.) अत्यन्त प्रिय; -धार—(वि.) जीवित; (पुं.) प्राणी; -धारण—(पुं.) जीवन-धारण, शिव; -धारी—(वि.) प्राणधार, जीवित, जो साँस लेता हो, चेतन; -नाथ—(पुं.) पति, स्वामी, प्रिय व्यक्ति, प्रियतम; -नाथी—(पुं.) गुरु प्राणनाथ के संप्रदाय का अनुयायी, इनका चलाया हुआ संप्रदाय; -नाश—(पुं.) प्राणत्याग; -नाशक—(वि.) मार डालनेवाला; -निग्रह—(पुं.) प्राणायाम की क्रिया; -पात—(पुं.) आत्मा, स्वामी, पति, प्रिय व्यक्ति; -पत्नी—(स्त्री.) प्राण के समान प्रिय पत्नी; -परिग्रह—(पुं.) प्राण-धारण, जन्म; -परिवर्तन—(पुं.) किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को किसी जीवित प्राणी के शरीर में वलाना; -प्यारा—(हिं. पुं.) अत्यन्त प्रिय व्यक्ति, पति, स्वामी; -प्रतिष्ठा—(स्त्री.) प्राण-धारण करना, हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार किसी नई बनी हुई मूर्ति को मन्दिर में स्थापित करते समय मन्त्रों को पढ़कर उसमें प्राण आरोपण करना; -प्रद—(वि.) प्राणदाता, शरीर का स्वास्थ्य, बल आदि बढ़ानेवाला; -प्रिय—(वि.)

प्राण के समान प्रिय; (पुं.) प्यारा, अति प्रिय व्यक्ति, पति, स्वामी, प्रियतम; -वल्लभ—(पुं.) देखें 'प्राण-वल्लभ'; -भूत—(वि.) प्राण-धारण करनेवाला; (पुं.) विष्णु; -मय—(वि.) प्राणवादी, जिसमें प्राण हो; -०कोश—(पुं.) वेदान्त के अनुसार शरीरस्थ पाँच कोशों में से एक जो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान-पाँचों प्राणों से बना हुआ माना जाता है; -यात्रा—(स्त्री.) साँस का खींचना और छोड़ना, वह व्यापार जिससे मनुष्य जीवित रहता है; -योनि—(पुं.) प्राणवायु, परमेश्वर; -रंघ्र—(पुं.) नासिका, नाक; -रोध—(पुं.) प्राणायाम; -वध—(पुं.) जान से मार डालना; -वल्लभ—(पुं.) अत्यन्त प्रिय व्यक्ति, प्यारा, पति, स्वामी; -वायु—(स्त्री.) प्राण, जीव; -व्यय—(पुं.) प्राणनाश; -शरीर—(पुं.) उपनिषदों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो मनोमय माना गया है; -संयम—(पुं.) प्राणायाम; -संशय, -संकट, -संदेह—(पुं.) जीवन पर आनेवाली महान् आशंका; -संभत—(पुं.) वायु, हवा; -सार—(वि.) वलिष्ठ; -हर—(वि.) मारक, नाश करनेवाला; -हानि—(स्त्री.) वह अवस्था जिसमें प्राणों पर संकट हो; -हारी—(वि.) प्राण लेनेवाला ।
 प्राणांत—(सं. पुं.) प्राणनाश, मरण ।
 प्राणांतक—(सं. वि.) जान लेनेवाला ।
 प्राणाधार, प्राणाधिक—(सं. वि.) प्राणों से अधिक प्रिय, प्यारा ।
 प्राणाधिनाथ—(सं. पुं.) पति, स्वामी ।
 प्राणायाम—(सं. पुं.) प्राण-वायु की गति का विच्छेदक व्यापार, योग के आठ अंगों में से एक जिसमें श्वास और प्रश्वास को यथाविधि इच्छा-शक्ति के अधिकार में किया जाता है ।
 प्राणायामी—(सं. पुं., वि.) प्राणायाम करनेवाला ।
 प्राणी—(हिं. पुं.) जीव-जन्तु, मनुष्य, व्यक्ति, पुरुष या स्त्री; (वि.) जिसमें प्राण हों ।
 प्राणीघ्न—(सं. पुं.) मेढ़ा, तीतर, घोड़े आदि जीवों की लड़ाई या दौड़ का जुआ ।
 प्राणेश, प्राणेश्वर—(सं. पुं.) पति, स्वामी, प्रिय व्यक्ति, बहूत प्यारा ।
 प्राणोपहार—(सं. पुं.) अहार, भोजन ।
 प्रातः—(नं. पुं.) प्रभात, तड़का; -कर्म—(पुं.) प्रातःकाल के समय किया

प्रेक्षागार, प्रेक्षागृह—(सं.पुं.) मंत्रणा-गृह, राजाओं आदि का मन्त्रणा करने का स्थान।
 प्रेक्षित—(सं. वि.) दृष्ट, देखा हुआ।
 प्रेक्षी—(सं. वि.) देखनेवाला।
 प्रेत—(सं. पुं.) मृत मनुष्य, एक देवयोनि जो पिशाचों की तरह की होती है, वह कल्पित शरीर जो मृत्यु के बाद प्राप्त होता है, भयंकर आकृति का मनुष्य; -कर्म—(पुं.) प्रेत-कार्य, हिन्दुओं में वह कर्म जो मृतक के दाह के बाद से सपिण्डीकरण तक किया जाता है; -कार्य—(पुं.) प्रेतकर्म; -गृह—(पुं.) शव जलाने का स्थान, श्मशान, मरघट; -गोह—(पुं.) प्रेत-गृह, मरघट; -त्व—(पुं.), -ता—(स्त्री.) प्रेत का भाव, काया या घर्म; -दाह—(पुं.) मृतक को जलाने का कार्य; -देह—(पुं.) पुराण के अनुसार मृतक का वह कल्पित शरीर जो मृत्यु समय से सपिण्डीकरण तक उसकी आत्मा को प्राप्त होता है; -नदी—(स्त्री.) वैतरणी नदी; -नाय, -नाह—(पुं.) यम; -पुर—(पुं.) यमपुरी; -यज्ञ—(पुं.) वह यज्ञ जिसके करने से प्रेतयोनि से मुक्ति होती है; -राज—(पुं.) यमराज; -लोक—(पुं.) यमपुरी; -विधि—(स्त्री.) मृतक का दाह आदि कर्म; -शिला—(स्त्री.) गया की वह शिला जिस पर प्रेतों के उद्देश्य से पिण्डदान किया जाता है; -हार—(पुं.) मृत शरीर को उठाकर श्मशान पर ले जानेवाला।
 प्रेतनी—(हिं. स्त्री.) प्रेत की स्त्री, चुड़ैल, भूतनी।
 प्रेता—(सं. स्त्री.) पिशाची, भगवती कात्यायनी का एक नाम।
 प्रेताधिप—(सं. पुं.) प्रेतों के राजा, यमराज।
 प्रेतान्न—(सं. पुं.) वह अन्न जो प्रेत के उद्देश्य से दिया जाय।
 प्रेताग्निनी—(सं. स्त्री.) मृतकों को खानेवाली भगवती का एक नाम।
 प्रेताशौच—(सं. पुं.) हिन्दुओं में सपिण्ड की मृत्यु के बाद होनेवाला अशौच जो ब्राह्मणों में दस, क्षत्रियों में बारह, वैश्यों में पन्द्रह और शूद्रों में तीस दिन का होता है, मरणाशौच।
 प्रेतास्थि—(सं. पुं.) मृत व्यक्ति की हड्डी।
 प्रेति—(सं. स्त्री.) अन्त, मरण।
 प्रेतिक—(सं. पुं.) मृत व्यक्ति, प्रेत।
 प्रेतिनी—(हिं. स्त्री.) पिशाचिनी, डाइन।
 प्रेती—(हिं. पुं.) प्रेतपूजक, प्रेत की

उपासना करनेवाला।
 प्रेतेश—(सं. पुं.) यमराज।
 प्रेतोन्माद—(सं. पुं.) एक प्रकार का उन्माद जिसको लोग प्रेतवाधा से उत्पन्न मानते हैं।
 प्रेत्य—(सं. पुं.) लोकान्तर, परलोक।
 प्रेत्यभाव—(सं. पुं.) पुनर्जन्म।
 प्रेष्यु—(सं. वि.) जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता हो।
 प्रेम—(सं. पुं.) प्रियता, स्नेह, प्रीति, अनुराग, प्यार, माया और लोभ, स्त्री-जाति और पुरुष-जाति का पारस्परिक मौन स्नेह जो बहुधा रूप, गुण, स्वभाव, साहित्य अथवा कामवासना के कारण होता है, एक अलंकार का नाम; -कर्ता—(पुं.) प्रेम करनेवाला, प्रेमी; -कलह—(पुं.) प्रेम के कारण हुई-दिल्लीगी या झगड़ा करना; -गविता—(स्त्री.) साहित्य में वह नायिका जिसको अपने पति के प्रेम का बहुत अभिमान हो, जिस स्त्री को इस बात का अभिमान हो कि उसका पति उसे बहुत चाहता है; -जल, -नीर—(पुं.) प्रेम के कारण आँखों से निकलनेवाला आँसू, प्रेमाश्रु; -पातन—(पुं.) प्रेम के आवेग में रोना; -पात्र—(पुं.) वह जिससे प्रेम किया जाय; -पाश—(स्त्री.) प्रेम का फंदा या जाल; -पुत्तलिका—(स्त्री.) प्यारी स्त्री, भार्या; -पुलक—(पुं.) प्रेम के कारण होनेवाला रोमांच; -बंध—(पुं.) गहरा प्रेम; -भक्ति—(स्त्री.) श्री-कृष्ण की वह भक्ति जो प्रेम के माध्यम से की जाय; -मार्ग—(पुं.) वह मार्ग जो मनुष्य को सांसारिक विषयों में फँसाता है; -वारि—(पुं.) प्रेम के कारण निकलनेवाला आँसू।
 प्रेमा—(सं. पुं.) स्नेही, इन्द्र, वायु, उपजाति वृत्त का ग्यारहवाँ भेद।
 प्रेमाक्षेप—(सं. पुं.) वह अलंकार जिसमें प्रेम का वर्णन करने में उसमें व्याधात भी दिखलाया जाता है।
 प्रेमावृत्त—(सं. पुं.) प्रेमरूप सुधा।
 प्रेमालाप—(सं. पुं.) प्रेमपूर्ण वार्तालाप।
 प्रेमार्णवन—(सं. पुं.) प्रेमपूर्वक आर्णवन, नायक और नायिका का परस्पर आर्णवन।
 प्रेमाश्रु—(सं. पुं.) देखें 'प्रेमवारि'।
 प्रेमिक, प्रेमी—(सं. पुं.) प्रेम करनेवाला, वह जो प्रेम करता हो, आसक्त।
 प्रेय—(सं. पुं.) एक प्रकार का अलंकार

जिसमें कोई एक भाव किसी दूसरे भाव का अथवा स्थायी भाव का अंग होता है।
 प्रेयस्—(सं. पुं.) पति, स्वामी, वल्लभ, प्रियतम।
 प्रेयसी—(सं. स्त्री.) प्रियतमा, प्यारी स्त्री।
 प्रेयस्ता—(सं. स्त्री.) प्रियता।
 प्रेरक—(सं. पुं., वि.) प्रेरणा करनेवाला, किसी काम में प्रवृत्त करनेवाला।
 प्रेरणा—(सं. पुं., स्त्री.) दबाव डालना, उत्तेजना देना, उसकाना।
 प्रेरणार्थक क्रिया—(सं. स्त्री.) किसी क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार के संबंध में यह सूचित होता है कि वह कर्ता की प्रेरणा द्वारा करवाया गया है; यथा—'पढ़ना' क्रिया का प्रेरणार्थक रूप 'पढ़वाना' है।
 प्रेरणीय—(सं. वि.) प्रेषणीय, भेजने योग्य, प्रेरणा करने योग्य।
 प्रेरना—(हिं. क्रि. स.) प्रवृत्त करना।
 प्रेरयिता—(सं. पुं.) प्रेरणा करनेवाला, उभाड़नेवाला, आज्ञा देनेवाला, भेजनेवाला।
 प्रेरित—(सं. वि.) प्रेषित, भेजा हुआ, उत्तेजित, उभाड़ा हुआ, प्रेरणा दिया हुआ।
 प्रेषक—(सं. पुं.) प्रेरक, भेजनेवाला।
 प्रेषण—(सं. पुं.) भेजने का काम, नियोग।
 प्रेषना—(हिं. क्रि. स.) भेजना।
 प्रेषयिता—(हिं. पुं.) भेजनेवाला।
 प्रेषित—(सं. वि.) प्रेरणा किया हुआ, भेजा हुआ; (पुं.) स्वर-साधन की एक प्रणाली।
 प्रेषितव्य—(सं. वि.) भेजने योग्य।
 प्रेष्य—(सं. पुं.) दास, सेवक, दूत।
 प्रेष्यता—(सं. स्त्री.) दासत्व, दूतत्व।
 प्रोक्त—(सं. वि.) कथित, कहा हुआ।
 प्रोक्षण—(सं. पुं.) सेचन, पानी छिड़कना, पानी का छीटा, विवाह में की एक रीति, परिछन।
 प्रोक्षणी—(सं. स्त्री.) कुश की वनी हुई मृद्रिका।
 प्रोक्षित—(सं. वि.) सींचा हुआ, वलिदान किया हुआ, निहत, मारा हुआ।
 प्रोज्झित—(सं. वि.) त्यक्त, छोड़ा हुआ।
 प्रोत—(सं. पुं.) वस्त्र, कपड़ा; (वि.) सिला हुआ, गुथा हुआ, गाँठ दिया हुआ।
 प्रोत्कर्ष—(सं. पुं.) श्रेष्ठता, उत्तमता।
 प्रोत्खात—(सं. वि.) गड़ढा किया हुआ।
 प्रोत्संग—(सं. वि.) बहुत अँच।
 प्रोत्तेजित—(सं. वि.) उत्तेजित किया हुआ।
 प्रोत्फुल्ल—(सं. वि.) पूर्णतः खिला हुआ।

प्रोत्साह—(सं.पुं.) प्रबल उत्साह ।
 प्रोत्साहक—(सं.वि.पुं.) प्रोत्साह देनेवाला ।
 प्रोत्साहन—(सं.पुं.) उत्साह बढ़ाना, नाटक में एक अलंकार ।
 प्रोत्साहित—(सं.वि.) उत्तेजित, उत्साहित, प्रवर्तित, ललकारा हुआ ।
 प्रोय—(सं.पुं.) कमर, गर्भाशय, पथिक, चिथड़ा; (वि.) स्थापित, रखा हुआ, प्रसिद्ध ।
 प्रोथित—(सं.वि.) भूमि में या नीचे गाड़ा हुआ ।
 प्रोप—(सं.पुं.) अति सन्ताप या दुःख ।
 प्रोषित—(सं.वि.) प्रवासी, जो विदेश गया हो; —नायक—(पुं.) वह नायक जो विदेश में अपनी नायिका के वियोग से विकल हो; —पत्निका—(स्त्री.) वह स्त्री जो अपने पति के विदेश जाने से दुःखित हो; —प्रेयसी, —भर्तृका—(स्त्री.) वह स्त्री जिसका स्वामी परदेश में रहता हो; —भार्य—(पुं.) वह नायक जिसकी नायिका विदेश में रहती हो ।
 प्रोष्ठपद—(सं.पुं.) मादों का महीना, पूर्वाभाद्रपद और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र ।
 प्रोष्ठपदी—(सं. स्त्री.) भाद्रपद मास की पूर्णिमा ।
 प्रोष्ण—(सं.पुं.) अति उष्ण, बहुत गरम ।
 प्रोह—(सं.पुं.) पर्व-सन्धि, घेर, गाँठ; (वि.) चतुर ।
 प्रोहित—(हिं.पुं.) देखें 'पुरोहित' ।
 प्रौढ़—(सं.वि.) वृद्धित, अच्छी तरह बढ़ा हुआ, पुष्ट, प्रगल्भ, निपुण, चतुर, दक्ष, पुरातन, गंभीर, गूढ़; (पुं.) चौबीस अक्षरों का एक तान्त्रिक मन्त्र; —ता—(स्त्री.) प्रौढ़ होने का भाव, प्रौढ़त्व; —त्व—(पुं.) प्रौढ़ता, प्रौढ़ावस्था ।
 प्रौढ़ा—(सं.स्त्री.) यौवनातीत वयवाली स्त्री, तीस वर्ष से पचास वर्ष तक की स्त्री, मली भाँति कामकला जाननेवाली स्त्री ।
 प्रौढ़ा-अधोरा—(सं. स्त्री.) वह प्रौढ़ा नायिका जो अपने नायक में विलास के चिह्न देखकर प्रत्यक्ष क्रोध दिखलावे ।
 प्रौढ़ाधोरा—(सं.स्त्री.) वह प्रौढ़ा नायिका जो अपने नायक में विलाससूचक चिह्न देखकर व्यंग्य रूप से क्रोध दिखलावे ।
 प्रौढ़ाधीराधोरा—(सं.स्त्री.) वह नायिका जो अपने नायक में परस्त्री-गमन के चिह्न देकर फुल व्यंग्य पूर्वक और कुछ प्रत्यक्षक्रोध दिखलावे ।
 प्रौढ़ि—(सं.स्त्री.) प्रौढ़ता, घृष्टता, वाद विवाद करने की घृष्टता ।

प्रौढ़ीकित—(सं.स्त्री.) किसी बात को गूढ़ बनाकर कहना, वह अलंकार जिसमें उत्कर्ष का हेतु न रहने पर कल्पित किया जाता है ।
 प्रौण—(सं. वि.) निपुण, चतुर ।
 प्रौष्ठपदी—(सं. स्त्री.) भाद्रपद मास की पूर्णिमा ।
 प्लक्ष—(सं.पुं.) पाकर का वृक्ष, पीपल का पेड़, सात कल्पित द्वीपों में से एक ।
 प्लक्षादेवी—(सं. स्त्री.) सरस्वती नदी ।
 प्लवंग—(सं. पुं.) बंदर, हरिन, साठ संवत्सरो में से एक ।
 प्लवंगम—(सं.पुं.) वन्दर, एक प्रकार का मातृक छन्द; (वि.) कूद-कूदकर चलनेवाला ।
 प्लव—(सं.पुं.) तैरना, संतरण, प्लवन, वाढ़, एक प्रकार की सुगंधित घास, बंदर, शब्द, लीटना, साठ संवत्सरो में से एक, स्नान करना, नहाना, जल में तैरनेवाली एक चिड़िया; (वि.) तैरता हुआ ।
 प्लवग—(सं. पुं.) बंदर, मेढक, हरिण; (वि.) तैरनेवाला ।
 प्लवन—(सं.पुं.) उछलना, कूदना, तैरना, उतार ।
 प्लवर्ग—(सं. पुं.) अग्नि, जलपक्षी ।
 प्लावगा—(सं.पुं.) मकंद, बन्दर ।
 प्लावन—(सं.पुं.) मज्जन, संतरण, तैरना, वाढ़, किसी पदार्थ को अच्छी तरह से धोना ।
 प्लावित—(सं. वि.) जल में डूबा हुआ ।
 प्लीहा—(सं.पुं.) पेट की तिल्ली; —कर्ण—(पुं.) कान का एक रोग ।
 प्लीहादर—(सं.पुं.) प्लीहा का रोग ।
 प्लक्षि—(सं.पुं.) स्नेह, प्रेम, अग्नि ।
 प्लुत—(सं.पुं.) घोड़े की टेढ़ी चाल जिसको पोइया कहते हैं, स्वर का एक भेद जो दीर्घ से भी बड़ा और तीन मात्राओं का होता है; —गति—(पुं.) गशक, खरहा ।
 प्लुप—(सं.पुं.) स्नेह, प्रेम, दाह ।

फ

फ हिन्दी वर्णमाला का बाईसवाँ व्यंजन तथा पवर्ग का दूसरा अक्षर । इसका उच्चारणस्थान ओष्ठ है । इसके उच्चारण करने में जीभ का अगला भाग ओठों से लगता है ।
 फंक—(हिं. स्त्री.) देखें 'फांक' ।
 फंका—(हिं.पुं.) नूतने देने या बूकनी की

उतनी मात्रा जितनी एक बार मुँह में फाँकी जा सके, खण्ड या टुकड़ा ।
 फंकी—(सं. स्त्री.) फाँकने की चूण आदि की पुड़िया, फाँकने की दवा, उतनी औषध जितनी एक बार में फाँकी जा सके ।
 फंग—(हिं.पुं.) बन्धन, फंदा, अनुराग ।
 फंद—(हिं.पुं.) बंधन, फंदा, दुःख, कष्ट, गूँज, मर्म, रहस्य, जाल, छल, धोखा, फसान का फन्दा ।
 फंदना—(हिं. क्रि. अ., स.) फंदे में पड़ना, फंसना, उल्लंघन करना, फांदना ।
 फंदरा—(हिं.पुं.) देखें 'फंदा' ।
 फंदवार—(हिं. वि.) फंदा लगानेवाला ।
 फंदा—(हिं.पुं.) किसी वस्तु या प्राणी को फंसाने के लिये लगाया हुआ रस्मी आदि का जाल, कण्ट, दुःख, पाग, फाँस; (मुहा.)—लगाना—किसी को फंसाने के लिये जाल फँसाना, धोखा देना; फंदे में पड़ना—धोखे में पड़ना ।
 फंदाना—(हिं. क्रि. स.) जाल में फंसाना, फंदे में लाना, उछालना, कुदाना ।
 फंफाना—(हिं. क्रि. अ.) शब्द को उच्चारण करते समय जीभ कांपना, हकलाना, खौलते हुए दूध, दाल आदि का ऊपर उठना ।
 फंसना—(हिं. क्रि. अ.) बन्धन में पड़ना, पकड़ा जाना, उलझना, अटकना ।
 फंसनी—(हिं. स्त्री.) कसेरे की एक प्रकार की हथौड़ी ।
 फंसाना—(हिं. क्रि. स.) वशीभूत करना, अपन वश में लाना, अटकाना, बसाना ।
 फंसिहारा—(हिं. वि.) फंसानेवाला ।
 फक—(हिं. वि.) स्वच्छ, सफेद; (स्त्री.) दो मिली हुई वस्तुओं का अलग होना; (मुहा.) रंग फक पड़ना—घबड़ाहट से चेहरे का रंग फीका पड़ जाना ।
 फकड़ी—(हिं.स्त्री.) दुर्गति, दुर्दशा, आपत्ति ।
 फकीर—(अ.पुं.) साधु, तपस्वी, मिनारो ।
 फकीरनी—(हिं. स्त्री.) स्त्री साधु, तपस्विनी, मिनारिणी ।
 फकीराना—(अ. वि.) फकीरों का-सा, फकीरों जैसा ।
 फकीरी—(हिं. स्त्री.) भिरामगमन निर्वनता, सायुता ।
 फकड़—(हिं. पुं.) बदनमन्त्र शक्ति, उच्छृंखल आदमी, छानने फूँतनेवाला; किनारामी साधु ।
 फक्किका—(सं. स्त्री.) अनुचित रूप धारण, छल-कपट, जो बात भास्यते कठिन

स्थल को स्पष्ट करने के लिये पूर्वपक्ष में कही जाय, कूट-प्रश्न ।

फग-(हि. पुं.) फंदा, बन्धन ।

फगुआ-(हि. पुं.) होली के उत्सव का दिन, फागुन के महीने में लोगों का वह आमोद-प्रमोद जो वसन्त-ऋतु के उपलक्ष में मनाया जाता है, (इसमें लोग एक दूसरे पर रंग डालते तथा अनेक प्रकार के अश्लील गाने गाते हैं), फाग के उपलक्ष में दी जानेवाली भेंट, गीत जो फागुन के महीने में गाया जाता है ।

फगुआना-(हि. क्रि. अ.) फागुन के महीने में किसी के ऊपर रंग छोड़ना अथवा उसको सुनाकर अश्लील गीत गाना ।

फगुनहट-(हि. स्त्री.) फागुन में चलने-वाली तीव्र वायु जो धूल से मरी होती है, फागुन में होनेवाली वर्षा ।

फगुनियों-(हि. पुं.) त्रिसन्धि नाम का फूल ।

फगुहारा-(हि. पुं.) फगुआ गानेवाला पुरुष, वह जो फागुन में होली खेलने के लिये किसी के घर जाता है ।

फजिहतिताई-(हि. स्त्री.) दुर्दशा ।

फजोहत-(अ. स्त्री.), फजोहती-(हि. स्त्री.) अपमान, दुर्दशा ।

फट-(सं. पुं.) साँप का फन, पाखण्ड, धोखा; (हि. स्त्री.) किसी पतली हलकी वस्तु पर आघात करने आदि से उत्पन्न शब्द ।

फटक-(हि. पुं.) स्फटिक, बिल्लौर पत्थर; (अव्य.) तत्क्षण, झटपट ।

फटकन-(हि. स्त्री.) अन्न की मूसी आदि जो उसे फटककर निकाली जाय ।

फटकना-(हि. क्रि. अ., स.) फट-फट शब्द करना, सूप से अन्न आदि को हिला-डुलाकर स्वच्छ करना, फेंकना, पटकना; पास आना, पहुँचना, अलग होना, तड़फड़ाना, श्रम करना, परखना, जाँचना, फटके से रुई धुनना ।

फटकरी-(हि. स्त्री.) देखें 'फिटकरी' ।

फटका-(हि. पुं.) धुनिये की धुनकी, तड़फड़हट, रसहीन कविता, एक प्रकार की बलुई मिट्टी, चिड़ियों को उड़ाने के लिये पेड़ पर बँधी हुई लकड़ी जिसकी रस्सी खींचने और ढीली करने से उसमें फट-फट शब्द होता है ।

फटकाना-(हि. क्रि. स.) फटकने का काम दूसरे से कराना, फेंकना, अलग करना ।

फटकार-(हि. स्त्री.) झिड़की, दुतकार, डाँट ।

फटकारना-(हि. क्रि. स.) झटका देकर फेंकना, शस्त्र आदि चलाना, अलग

करना, दूर करना, छितराना, कपड़े को पटककर धोना, अन्न आदि को सूप से इस प्रकार हिलाना कि वह निखर जाय, लाम उठाना, लेना, किसी को कड़ी बात कहकर चुप कर देना ।

फटकिया-(हि. पुं.) एक प्रकार का विप ।

फटकी-(सं. स्त्री.) देखें 'फटका'; (हि. स्त्री.) बहेलियों की चिपटी टोकरी जिसमें वे चिड़ियों को बंद रखते हैं ।

फटना-(हि. क्रि. अ.) आघात लगने पर किसी वस्तु का टूटना या उसमें दरार पड़ना, किसी वस्तु का बीच का भाग कटकर अलग हो जाना, वस्त्र आदि का पुराना होकर छिन्न-भिन्न होना, बदली आदि का गायब होना, अधिकता होना, अलग होना, दूध या दही में ऐसा विकार हो जाना कि उसमें का सार-भाग और पानी अलग हो जाय; (मुहा.) छाती फटना-असह्य दुःख होना; मन (चित्त) फटना-प्रेम-भाव मिट जाना; पड़ना-सहसा पहुँच जाना ।

फटफट-(हि. स्त्री.) फट शब्द की आवृत्ति, व्यर्थ बकवाद, जूते आदि पटकने का शब्द ।

फटफटाना-(हि. क्रि. अ., स.) फट-फट शब्द होना, चक्कर मारना, इधर-उधर फिरना, पीट-कर फट-फट शब्द करना ।

फटहा-(हि. वि.) फटा हुआ ।

फटा-(सं. स्त्री.) सर्प का फन, दाँत, घमंड, छल; (हि. पुं.) छेद; (वि.) जो फट गया हो; (मुहा.) किसी के फटे में पाँव डालना-किसी के संकट को अपने ऊपर ले लेना ।

फटिक-(हि. पुं.) स्फटिक, बिल्लौर, संगमरमर पत्थर ।

फटिका-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की मदिरा ।

फटिकारी-(सं. स्त्री.) फिटकरी ।

फटेहाल-(हि. वि.) कंगाल, दरिद्र ।

फट्-(सं. अव्य.) तन्त्रोक्त अस्र नामक मन्त्रमेद जो आवाहन, प्रोक्षण आदि में प्रयुक्त होता है ।

फट्ठा-(हि. पुं.) चीरे हुए बाँस का टुकड़ा ।

फट्ठी-(हि. स्त्री.) बाँस का चौरा हुआ पतला फट्ठा ।

फड़-(हि. स्त्री.) जुआ खेलने की एक रीति, जुए का एक दाँव, जुए का अड्डा, वह स्थान जहाँ दुकानदार

बैठकर माल लेता या बेचता है; (पुं.) वह गाड़ी जिस पर तोप चढ़ाई जाती है, चरख, गाड़ी का हरसा, लकड़ी का मोटा चौरा हुआ बल्ला ।

फड़क, फड़कन-(हि. स्त्री.) फड़कने की क्रिया या भाव, फड़फड़ाहट, स्पंदन, उत्सुकता, लालसा ।

फड़कना-(हि. क्रि. अ.) फड़फड़ करना, फड़फड़ाना, हिलना-डोलना, उद्यत होना, तड़फड़ाना, नीचे-ऊपर या इधर-उधर बारंबार हिलना, किसी अंग में गति होना, पक्षियों का पर हिलाना ।

फड़काना-(हि. क्रि. स.) विचलित करना, हिलाना, उत्सुक बनाना, उमंग में लाना ।

फड़नवीस-(हि. पुं.) मराठा शासनकाल का एक विशेष पदाधिकारी ।

फड़फड़ाना-(हि. क्रि. अ., स.) फड़फड़ शब्द उत्पन्न करना या होना, घबड़ाना, उत्सुक होना, तड़फड़ाना ।

फड़बाज, फड़िया-(हि. पुं.) वह पुरुष जो लोगों को अपने घर में जुआ खेलाता है ।

फड़ोलना-(हि. क्रि. अ.) किसी वस्तु को उलटना-मलटना या इधर-उधर करना ।

फण-(सं. पुं.) रस्सी का फंदा, मुद्दी, नाक का ऊपरी अगला भाग, साँप का फन ।

फणकर, फणघर, फणभृत्, फणवान्-(सं. पुं.) सर्प, साँप ।

फणा-(सं. स्त्री.) सर्प का फन ।

फणाकर, फणाघर, फणाभर-(सं. पुं.) सर्प, साँप ।

फणी-(सं. पुं.) साँप, -कन्या-(स्त्री.) नाग-कन्या; -केशर-(पुं.) नागकेशर;

-चंपक(पुं.) जंगली चंपा; -जा-(स्त्री.) एक प्रकार की तुलसी जिसकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं; -तल्पग-(पुं.) भगवान् विष्णु;

-पति-(पुं.) देखें 'फणींद्र'; -श्रिय-(पुं.) वायु, हवा;

-फन-(सं.) अहिफेन, अफीम; -भुज्-(पुं.) पन्नगाशन, गरुड़; -मुक्ता-(स्त्री.) साँप की मणि; -मुख-(पुं.) चोर की सेंब लगाने की सबरी; -लता, -बल्ली-

(स्त्री.) नागबल्ली, पान ।

फणींद्र, फणीश-(सं. पुं.) शेषनाग, वासुकि, बड़ा साँप ।

फणी-(सं. पुं.) सर्प, साँप ।

फतिगा-(हि. पुं.) एक प्रकार का उड़ने-वाला कीड़ा ।

फदकना-(हि. क्रि. अ.) फदफद शब्द करना, खदवदाना, देखें 'फुदकना' ।

फदका-(हि. पुं.) गुड़ का पाग जो बहुत

गाड़ा न हुआ हो।

फन—(हि.पुं.) साँप का फौला हुआ सिर, फण।

फनकना—(हि. क्रि. अ.) सनसनाते हुए हवा में हिलना, फनफनाना।

फनकार—(हि.स्त्री.) फनफन का शब्द, वैसा शब्द जैसा साँप के फुफकारने या वैल आदि के साँस लेने से उत्पन्न होता है।

फनगना—(हि. क्रि. अ.) पौधों में नये-नये अंकुर निकलना, पनपना।

फनगा—(हि. पुं.) देखें 'फतिगा'।

फनना—(हि. क्रि. अ.) कार्य का आरंभ होना।

फनफनाना—(हि. क्रि. अ.) फनफन शब्द उत्पन्न करना, चंचलता के साथ इधर-उधर हिलना।

फनस—(हि. पुं.) कटहल।

फनिग—(हि. पुं.) देखें 'फणींद्र', साँप।

फनिद—(हि. पुं.) देखें 'फणींद्र'।

फनि—(हि. पुं.) देखें 'फण, फणी'।

फनिग, फनिप, फनिपति, फनिधर—(हि. पुं.) सर्प।

फनुस—(हि. पुं.) देखें 'फानुस'।

फन्नी—(हि. स्त्री.) लकड़ी आदि का वह टुकड़ा जो चूल आदि को दृढ़ करने के लिये ठोका जाता है, जोलाहों का एक प्रकार का कंधी की तरह का औजार।

फफदना—(हि. क्रि. अ.) गोबर, दाद आदि का छितराकर फेलना, बढना।

फफसा—(हि. पुं.) फुफ्फुस, फेफड़ा।

फफुंदी—(हि. स्त्री.) काई की तरह की सफेद तह जो बरसात के दिनों में फल, लकड़ी आदि पर लग जाती है, स्त्रियों की साड़ी का बंधन, नीवी।

फफोर—(हि. पुं.) एक प्रकार का जंगली प्याज।

फफोला—(हि. पुं.) आग में जलने से चमड़े पर का पोला उभाड़ जिसके भीतर पानी भर जाता है, छाला; (मुहा.) दिल के फफोले फोड़ना—अपने चित्त का रोप प्रगट करना।

फफकना—(हि. क्रि. अ.) मोटा होना।

फफती—(हि. स्त्री.) समय के अनुकूल वात, हँसी की वात जो किसी पर घटती हो, चुटकी, व्यंग्य; (मुहा.)—उड़ाना—हँसी उड़ाना;—कसना—हँसी उड़ाना।

फफन—(हि. स्त्री.) सुन्दरता, शोभा, छवि।

फफना—(हि. क्रि. अ.) शोभा देना, सजना, सुन्दर या मला जान पड़ना, वस्त्र आदि इस प्रकार पहनना कि अच्छा जान पड़े।

फवि—(हि. स्त्री.) फवन।

फवीला—(हि. वि.) जो मला जान पड़ता हो, सुन्दर, शोभा देनेवाला।

फर—(हि. पुं.) फल।

फरक—(हि. स्त्री.) फरकने का भाव या क्रिया, फुरती से उछलने-कूदने की चेष्टा; (पुं.) देखें 'फर्क'।

फरकन—(हि. स्त्री.) फड़कने का भाव या क्रिया।

फरकना—(हि. क्रि. अ.) फड़कना, हिलना-डुलना, आप से आप स्पंदित होना।

फरका—(हि. पुं.) छप्पर जो अलग से छाकर वेंडेर पर चढ़ाया जाता है, द्वार पर लगाने का टट्टर, वेंडेर की एक ओर की छाजन, पल्ला।

फरकाना—(हि. क्रि. स.) संचालित करना, हिलाना, वार-वार हिलाना, फड़फड़ाना, अलग करना।

फरकी—(हि. स्त्री.) वांस की पतली तीली जिसमें लासा लगाकर चिड़ीमार चिड़ियों को फँसाता है, भीत में खड़े बल जड़ने के पत्थर।

फरकिल्ला—(हि. पुं.) ह्रस्व में का खूँटा।

फरचा—(हि. वि.) जो जूठा न हो, शुद्ध, पवित्र।

फरचाना—(हि. क्रि. स.) शुद्ध करना।

फरना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'फलना'।

फरफंद—(हि. पुं.) चोचला, दाँव-पेंच, छल-कपट।

फरफर—(हि. पुं.) चिड़ियों के उड़ने या पंख फड़फड़ाने से उत्पन्न शब्द।

फरफराना—(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'फड़-फड़ाना'।

फरफुंदा—(हि. पुं.) देखें 'फतिगा'।

फरमा—(हि. पुं.) किसी वस्तु को ढालने का साँचा, ढाँचा, डौल, लकड़ी आदि का बना हुआ ढाँचा जिस पर रखकर मोची जूता बनाते हैं, कागज का पूरा ताव जो मुद्रण-यंत्र पर एक बार में छापा जाता है।

फरयारी—(हि. स्त्री.) हल की वह लकड़ी जिसमें फाल लगा रहता है।

फरराना—(हि. क्रि. स.) देखें 'फहराना'।

फरवार—(हि. पुं.) खलिहान।

फरयो—(हि. पुं.) एक प्रकार का मूना हुआ चावल, मुरमुरा, लार्ड।

फरशी—(फा. स्त्री.) लंबी नलीवाला घाही हुक्का।

फरस—(हि. पुं.) समतल मृत्ति, फर्न।

फरसा—(हि. पुं.) मिट्टी गगने का फावड़ा।

फरहटा—(हि. पुं.) चरखी के बीच में जड़ी हुई पतली चौड़ी पटरी।

फरहर—(हि. वि.) शुद्ध, निर्मल, हरा-भरा, प्रसन्न।

फरहर (रा)ना—(हि. क्रि. अ., स.) फरकना, फहराना, झंडा उड़ाना।

फरहरा—(हि. पुं.) झंडा, पताका; (वि.) स्पष्ट, शुद्ध, निर्मल, अलग-अलग, प्रसन्न, खिला हुआ।

फरहरी—(हि. स्त्री.) फल।

फरहा—(हि. पुं.) घुनिये का लई घुनने की कमान।

फरही—(हि. स्त्री.) लकड़ी का वह चौड़ा टुकड़ा जिस पर पात्र रखकर कसेरे रेतते हैं।

फराक—(हि. पुं.) मैदान; (वि.) लंबा-चौड़ा।

फरार—(अ. पुं.) भागना, गायब होना।

फरारी—(अ. वि.) भागा हुआ; (पुं.) अपराधी जो भागता फिरता हो।

फराल—(हि. स्त्री.) विस्तार, फैलाव, पटरा।

फरासीसी—(हि. पुं., वि.) फ्रांस देश का रहनेवाला, फ्रांस देश का बना हुआ, फ्रांस देश का।

फरिया—(हि. स्त्री.) वह लहंगा जो सामने की ओर सिला नहीं रहता; (पुं.) मिट्टी की नाँद।

फरियाद—(फा. स्त्री.) अपराध की गिका-यत, दुहाई, नालिश।

फरियादी—(फा. वि. पुं.) फरियाद करनेवाला।

फरियाना—(हि. क्रि. अ., स.) धोकर साफ करना, पक्ष निर्णय करना, तय करना, स्वच्छ करना, स्पष्ट दिखाई पड़ना।

फरी—(हि. स्त्री.) फाल, गाड़ी का हरास, फड़, गतके की मार रोकने की चमड़े की डाल, फली।

फरीक—(अ. पुं.) जूटा करनेवाला, पदा, वादी या प्रतिवादी।

फरुहा—(हि. पुं.) देखें 'फावड़ा'।

फरही—(हि. स्त्री.) छोटा फावड़ा, फावड़े के आकार का एक लकड़ी का उपकरण जो घोड़े की लौद हटाने अथवा गैत में क्यारी बनाने के काम में आता है, मूना दूआ चावल जो भीतर में पोखा हो जाता है, लार्ड।

फरहरी—(हि. स्त्री.) देखें 'फरहरी', गंदन।

फरेंद्र—(हि. पुं.) एक प्रकार का बड़ा गुदेदार आम्रुज।

फरेंद्र—(मं. पुं.) आम्रुज का वृक्ष।

फरेव—(फा. पुं.) घोखा, छल।
 फरेवी—(फा. वि.) घोखा देनेवाला,
 छली, घोखेवाज।
 फरेरी—(हि. स्त्री.) जंगल के फल, जंगली मेवा।
 फरोख्त—(फा. स्त्री.) विक्री, बेची।
 फरोख्ता—(फा. वि.) बेचा हुआ, बिका हुआ।
 फक—(अ. पुं.) अन्तर, भेद, दूरी।
 फर्च—(हि. वि.) देखें 'फरचा'।
 फर्चा—(हि. वि.) देखें 'फरचा'।
 फर्ज—(अ. पुं.) कर्तव्य, कर्म।
 फर्जी—(अ. वि.) फर्ज किया हुआ, काल्पनिक।
 फर्द—(अ. वि.) अकेला; (पुं.) कागज
 का ताव, पन्ना आदि।
 फर्दा—(हि. पुं.) गेहूँ या धान की उपज
 का एक रोग।
 फर्दा—(हि. पुं.) देखें 'खरटा'।
 फर्श—(अ. पुं.) कमरे का धरातल-भाग,
 गलीचा, दर्री।
 फल—(सं. पुं.) वनस्पति में होनेवाला गुदे
 से परिपूर्ण वह बीजकोश जो फूलों में से
 विशिष्ट ऋतु में उत्पन्न होता है, गणित
 की किसी क्रिया का परिणाम, उद्देश्य
 की सिद्धि, लाभ, वैराशिक की तीसरी
 राशि, व्याज, सूद, क्षेत्रफल, प्रयोजन,
 स्त्री का रज, वमन, त्रिफला, दान, इन्द्रजव,
 गुण, प्रभाव, नतीजा, कर्म का भोग, शुभ
 कर्मों का परिणाम, वाण-भाले आदि
 का नुकीला भाग, ढाल, हल का फाल,
 प्रतिफल, बदला, न्याय के अनुसार
 प्रवृत्ति और दोष से उत्पन्न अर्थ, फलित
 ज्योतिष में ग्रहों के योग का मुख
 अथवा दुःख देनेवाला परिणाम; -कटक—
 (पुं.) पनस, कटहल; -क—(पुं.) चक्र,
 ढाल, लकड़ी आदि का पट्टा, चौकी,
 हथेली, वरक, चादर, जलपात्र रखने
 का आवार, घोवी का पाट, नितंब,
 हड्डी का टुकड़ा, खाट की बिनाई;
 -०पंच—(पुं.) ज्योतिष का एक यन्त्र;
 -कर—(हि. पुं.) वह कर जो वृक्षों के
 फल पर लगाया जाता है; -कृष्ण—(पुं.)
 करंज वृक्ष, जल-आँवला; -केशर—(पुं.)
 नारियल का वृक्ष; -कोष—(पुं.) अण्ड-
 कोष; -ग्राही—(वि.) फल भोगनेवाला;
 -तः—(अव्य.) फलस्वरूप, इसलिये;
 -त्रय, -त्रिक—(पुं.) त्रिफला, हरी, बहेड़ा,
 आमला; -द—(वि.) फल देनेवाला;
 -दान—(पुं.) हिन्दुओं में विवाह स्थिर
 करने की एक रीति, वररक्षा, विवाह-
 सम्बन्धी टीके की रीति; -दार—(हि. वि.)
 फलवाला, जिसमें फल लगे हों; -द्वम-

(पुं.) फला हुआ वृक्ष; -पाक—(पुं.)
 कर्मदक, करौदा; -पादप—(पुं.)
 फल का वृक्ष; -पुच्छ—(पुं.) वह
 वनस्पति जिसकी जड़ में गाँठ पड़ती हो;
 -पुष्पा—(स्त्री.) पिंडखजूर; -पूर—
 (पुं.) दाड़िम, अनार, विजौरा नींबू;
 -प्रद—(वि.) फल देनेवाला; -भागी—
 (वि.) फल का भोग करनेवाला;
 -भूमि—(स्त्री.) वह स्थान जहाँ कर्मों
 का फल भोगना पड़ता है; -भोग—
 (पुं.) कर्मफल, सुख-दुःख आदि का
 भोग; -मत्स्या—(स्त्री.) घृतकुमारी,
 वीकृआर; -सुख्या—(स्त्री.) अजमोदा;
 -मुंड—(पुं.) नारियल का पेड़; -योग—
 (पुं.) नाटक में वह स्थान जिसमें फल
 की प्राप्ति अथवा नायक की अर्थसिद्धि
 हो; -राज—(पुं.) तरवूज, खरवूजा;
 -लक्षणा—प्रयोजनवती लक्षणा; -वृत्ति—
 (स्त्री.) घाव में डालने की कपड़े की
 मोटी वृत्ति; -वर्तुल—(पुं.) कुम्हड़ा,
 तरवूज; -वान्—(वि.) जिसमें फल
 लगे हों; -विक्रयी—(पुं.) फल बेचने-
 वाला; -वृक्ष—(पुं.) फल का पेड़;
 -श्रेष्ठ—(पुं.) आम का वृक्ष; -स्थापन
 —(पुं.) सोलह प्रकार के संस्कारों में से
 तीसरा संस्कार, सीमंतोन्नयन; -स्नेह—
 (पुं.) अखरोट का वृक्ष; -हरी—(हि.
 स्त्री.) वन के वृक्षों के फल, मेवा; -हार—
 (हि. पुं.) देखें 'फलाहार'; -हारी—(वि.)
 फल चुरानेवाला; (स्त्री.) कालिका देवी;
 (हि. वि.) (पक्वान्न) जो अन्न से न बना
 हो, जिस खाद्य-पदार्थ के बनाने में केवल
 फलों का उपयोग किया गया हो।
 फलना—(हि. क्रि. अ.) फल से युक्त होना,
 फल लगना, परिणाम निकलना, लाभ-
 दायक होना, शरीर के किसी भाग में
 छोटे-छोटे दाने निकलना; फलना-
 फूलना—सम्पन्न और सुखी होना।
 फलांग—(हि. स्त्री.) एक स्थान से उछल-
 कर दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया,
 भाव या दूरी, मलखंभ का एक व्यायाम,
 छलांग।
 फलांगना—(हि. क्रि. अ.) कूदना, फाँदना।
 फलांत—(सं. पुं.) फल का अन्त या शप।
 फलांश—(सं. पुं.) तात्पर्य, सारांश।
 फला—(सं. स्त्री.) प्रियंगु, शमी वृक्ष।
 फलागम—(सं. पुं.) फल आने का काल,
 शरद काल।
 फलादन—(सं. वि.) फल खानेवाला;
 (पुं.) शुक, तोता।

फलादेश—(सं. पुं.) ग्रहादि का फल या
 परिणाम बतलाना।
 फलाध्यक्ष—(सं. पुं.) फल देनेवाला, ईश्वर।
 फलाना—(हि. क्रि. स.) फलने में प्रवृत्त
 करना।
 फलाफल—(सं. पुं.) अच्छा या बुरा फल।
 फलाफल—(सं. पुं.) अमलवेत।
 फलाराम—(सं. पुं.) फल का वगीचा।
 फलार्थी—(सं. वि.) फल की कामना
 करनेवाला।
 फलाले (लै)न—(हि. पुं.) एक प्रकार का
 कोमल ऊनी वस्त्र।
 फलांशी—(सं. वि.) फलमोजी, फल
 खानेवाला।
 फलासव—(सं. पुं.) फलों से बनी हुई
 मदिरा।
 फलास्थि—(सं. पुं.) नारियल का वृक्ष।
 फलाहार—(सं. पुं.) केवल फलों का भोजन।
 फलाहारी—(सं. पुं.) वह जो केवल फल
 खाकर निर्वाह करता हो; (वि.) जो केवल
 फलों से बना हो, फलाहार-संबंधी।
 फलित—(सं. वि.) फलवान्, फला हुआ,
 पूर्ण, संपूर्ण; (पुं.) पत्थरफूल, छरीला;
 -ज्योतिष—(पुं.) ज्योतिष शास्त्र का
 वह भाग जिसमें ग्रहों के योग का फला-
 फल बतलाया जाता है।
 फलितव्य—(सं. वि.) फलने योग्य।
 फलिन—(सं. वि.) फला हुआ, जिसमें
 फल लगे हों; (पुं.) पनस, कटहल।
 फलिनी—(सं. स्त्री.) मूसली, इलायची,
 मेहँदी।
 फली—(हि. स्त्री.) पौधों के वे फल जो
 चिपटे और लंबे होते हैं जिनमें बीज
 भरे होते हैं, छीमी।
 फलीभूत—(सं. वि.) फलित, फलदायक,
 लाभदायक, सफल।
 फलेवा, फलेन्न—(हि. सं. पुं.) एक प्रकार का
 बड़ा, गुदेदार और मीठा जामुन।
 फलोदय—(सं. पुं.) लाभ, हर्ष, आनन्द,
 फल की उत्पत्ति।
 फलोद्भव—(सं. वि.) जो फल से उत्पन्न
 हुआ हो।
 फलोपजीवी—(सं. पुं., वि.) जो फल
 बेचकर जीविका निर्वाह करता हो।
 फलु—(सं. वि.) असार, निरर्थक, व्यर्थ,
 सामान्य, क्षुद्र, छोटा; (स्त्री.) गया-
 क्षेत्र की एक नदी।
 फलुनीभव—(सं. पुं.) वृहस्पति का एक नाम।
 फल्ला—(हि. पुं.) एक प्रकार का पीले
 रंग का रेशम।

फसकड़ा—(हि. पुं.) बैठने का ढंग या आसन विशेष ।
 फसकना—(हि. क्रि. अ.) फटना, घँसना; (वि.) जल्दी से घँसने या फट जानेवाला ।
 फसकाना—(हि. क्रि. स.) कपड़े को दबाकर फाड़ना, घँसाना ।
 फसल—(हि. स्त्री.) खेती की उपज, खेत में खड़े अनाज ।
 फसली—(हि. वि.) फसल का, मीसमी ।
 फसाद—(अ. पुं.) खराबी, बिगाड़, बखेड़ा, झगड़ा ।
 फसादी—(अ. वि.) फसाद करनेवाला, उपद्रवी ।
 फहरना—(हि. क्रि. अ.) हवा में उड़ना ।
 फहरान—(हि. स्त्री.) फहराने का भाव या क्रिया ।
 फहराना—(हि. क्रि. स.) हवा में उड़ने के लिये किसी वस्तु को छोड़ देना, हवा में रह-रहकर हिलना या उड़ना, हवा में पसारना ।
 फहरानि—(हि. स्त्री.) देखें 'फहरान' ।
 फहरिस्त—(हि. स्त्री.) सूची ।
 फाँक—(हि. स्त्री.) किसी फल आदि का एक सिरे से दूसरे सिरे तक काटकर अलगाया हुआ टुकड़ा, किसी गोल या पिण्डाकार वस्तु का काटा या चीरा हुआ टुकड़ा, खण्ड, कोई टुकड़ा ।
 फाँकड़ा—(हि. वि.) छैल-छत्रीला, हृष्ट-पुष्ट ।
 फाँकना—(हि. क्रि. स.) चूर, दाने या बूकनी के रूप की किसी वस्तु को दूर से मुँह में डालना; (मुहा.) घूल फाँकना—दुर्दशा भोगना ।
 फाँका—(हि. पुं.) फंका, उतनी वस्तु जो एक वार फाँकी जाय, उपवास ।
 फाँग, फाँगी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का साग ।
 फाँट—(हि. स्त्री.) किसी वस्तु को यथा-क्रम कई भागों में बाँटने की क्रिया, क्रम से बाँटा हुआ भाग, औपचि का बचाव या काड़ा ।
 फाँटना—(हि. क्रि. स.) विभाग करना, बाँटना, काड़ा बनाना ।
 फाँटवाँदी—(हि. स्त्री.) वह कागज जिसमें जमींदारों या पट्टीदारों के अनुसार गांव की आय लिखी होती है ।
 फाँटा—(हि. पुं.) दो दीवारों के कोने में बनी हुई कोनिया ।
 फाँह, फाँड़ा—(हि. पुं.) घोती या झुपड़े का वह भाग जो कमर में बँधा रहता है ।

फाँद—(हि. स्त्री.) उछलने का भाव या क्रिया, उछाल, चिड़ियों को फँसाने का फंदा ।
 फाँदना—(हि. क्रि. स.) झटके से शरीर को ऊपर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पड़ना, कूदना, कूदकर लाँघना, फँसाना, फंदे में फाँसना ।
 फाँदा—(हि. स्त्री.) गट्टर बाँधने की रस्सी ।
 फाँफी—(हि. स्त्री.) बहुत महीन झिल्ली, मलाई की पतली तह जो दूध के ऊपर पड़ जाती है, जाला या माँड़ा जो आँख की पुतलियों पर पड़ जाता है ।
 फाँस—(हि. स्त्री.) पाश, बंधन, वह रस्सी जिसका फंदा डालकर पशु-पक्षी फँसाये जाते हैं, बाँस या काठ का कड़ा रेखा या नोक, महीन कांटा, पतली तीली या खपची ।
 फाँसना—(हि. क्रि. स.) बंधन में डालना, पकड़ना, घोखे में डालना, जाल में फँसाना, किसी पर ऐसा प्रभाव डालना कि वह दश में हों जाय ।
 फाँसी—(हि. स्त्री.) पाश, फँसाने का फंदा, मृत्युदण्ड जो गले में फंदा डालकर दिया जाता है, प्राणदण्ड की टिकठी; (मुहा.)—चढ़ना—गला फाँसकर प्राणदण्ड पाना;—देना—फाँसी पर प्राणदंड देना; अत्यन्त कष्ट देना ।
 फाका—(अ. पुं.) भूखा रहना, उपवास ।
 फाखतई—(हि. वि.) नूरापन लिये लाल रंग का ।
 फाग—(हि. पुं.) फाल्गुन महीने में होनेवाला उत्सव जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग या गुलाल डालते और वसंत ऋतु का गीत गाते हैं, फाग में गाया जानेवाला गीत ।
 फागुन—(हि. पुं.) विशिष्ट ऋतु का दूसरा महीना, माघ के बाद का महीना, फाल्गुन ।
 फागुनी—(हि. वि.) फागुन-संबंधी ।
 फाटक—(हि. पुं.) बड़ा द्वार, तोरण, फटकन, पछोड़न ।
 फाटकी—(हि. स्त्री.) फिटकरी ।
 फाटना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'फटना' ।
 फाड़न—(हि. पुं.) कागज या कपड़े का फाड़कर निहाला हुआ भाग, बही के मक्खन की छाँट ।
 फाड़ना—(हि. क्रि. स.) गूथ करना, टुकड़े करना, चीरना, आँध या मुँह फाँकर तोलना, घिसियाँ उड़ाना, सटाई के योग में दूध या जल और मार-भाग अलगना ।

फाणि—(सं. स्त्री.) गुड़ ।
 फाणित—(सं. पुं.) खोलाकर गाढ़ा किया हुआ ऊँच का रस, रात्र. घीरा ।
 फानना—(हि. क्रि. स.) किसी काम को हाथ में लेना, हई को फटकना या धुनना ।
 फाफर—(हि. पुं.) कूट ।
 फाफा—(हि. स्त्री.) पोपली बुड़िया ।
 फाव—(हि. स्त्री.) देखें 'फवन' ।
 फावना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'फवना' ।
 फायदा—(अ. पुं.) लाभ, उपकार ।
 फायदेमंद—(अ. वि.) लाभदायक ।
 फाया—(हि. पुं.) देखें 'फाहा' ।
 फार—(हि. पुं.) देखें 'फाल' ।
 फारना—(हि. क्रि. स.) देखें 'फाड़ना' ।
 फारस—(हि. पुं.) देखें 'फारस', ईरान ।
 फारा—(हि. पुं.) कतला, फाँक, फाल ।
 फाल—(सं. पुं.) लोहे की एक हाथ लंबी छड़ जिसका सिरा नुकीला होता है और जो हल की अँकड़ी के नीचे लगाई जाती है, कुसी, वस्त्र, फावड़ा, महादेव, बलदेव; (हि. स्त्री.) फल आदि में से काटा हुआ पतला टुकड़ा कटी हुई चुपारी; उग, फलांग; (मुहा.)—बाँधना—उछलकर लाँघना ।
 फालकृष्ट—(सं. वि.) हल से जोता हुआ ।
 फालगुप्त—(सं. पुं.) बलराम का नाम ।
 फाल्गु—(हि. वि.) आवश्यकता से अधिक, फाल्जिल ।
 फाल्गुन—(सं. पुं.) अर्जुन का नाम, वह चन्द्रमास जिसकी पूर्णिमा फाल्गुनी नक्षत्र में होती है, फाल्गुन का महीना;—प्रिय—(पुं.) गंध ।
 फाल्गुनि—(सं. पुं.) अर्जुन का एक नाम ।
 फाल्गुनी—(सं. स्त्री.) पूर्वा-फाल्गुनी तथा उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र ।
 फावड़ा—(हि. पुं.) एक प्रकार का खोहे का असन जो मिट्टी खोदने तथा हटाने के काम में आता है, फारया ।
 फावड़ी—(हि. स्त्री.) छोटा फावड़ा, फरती ।
 फाहा—(हि. पुं.) फाया, फाव, फोटे आदि पर लगाने की भरहम से तर की हुई पट्टी ।
 फिक्कना—(हि. क्रि. स.) देखें 'फिक्कना' ।
 फिना—(हि. पुं.) एक प्रकार की मिट्टियाँ ।
 फिन्की—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का मोटा अन्न ।
 फिन्कित—(हि. पुं.) फरी गदाह-पगामे-याका ।
 फिन्कुर—(हि. स्त्री.) फूँ फूँ की धुन्ध में मूँ में मिट्टिका है ।

फिक्क—(अ. स्त्री.) सोच, चिन्ता ।
 फिक्कुर—(हि. पुं.) मूर्च्छा में मुंह से निकलनेवाला गाज ।
 फिट—(हि. अव्य.) धिक्कार का शब्द, धिक्, छिः ।
 फिटकरी—(हि. स्त्री.) देखें 'फिटकरी' ।
 फिटकार—(हि. पुं.) धिक्कार, शाप, कोसना ।
 फिटकरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का खनिज पदार्थ जो लाल, काला, पीला तथा सफेद होता है ।
 फिटकी—(हि. स्त्री.) छोट्टा, नये कपड़े का फुचड़ा ।
 फिटाना—(हि. क्रि. स.) भगाना ।
 फिट्टा—(हि. वि.) अपमानित, फटकार खाया हुआ ।
 फिदा—(अ. वि.) मुग्ध, आसक्त ।
 फिदाई—(अ. वि.) प्राण निछावर करनेवाला ।
 फिना—(हि. स्त्री.) मृत्यु, नाश ।
 फिनिया—(हि. स्त्री.) कान में पहनने का एक गहना ।
 फिनीज—(हि. स्त्री.) दो मस्तूलों की छोटी नाव ।
 फिफरी—(हि. स्त्री.) पपड़ी ।
 फिरंग—(सं. पुं.) यूरोप महादेश, गोरों का देश, अंगरेज, आतशक रोग, गरमी ।
 फिरंगी—(हि. पुं.) फिरंग देश का रहनेवाला, गोरा; (स्त्री.) विलायती तलवार; (वि.) विलायती ।
 फिरंट—(हि. वि.) विरुद्ध, विरोध करने के लिए उद्यत ।
 फिर—(हि. अव्य.) पुनः, दुबारा, अनन्तर, उपरान्त, भविष्य में, दूसरे समय, आगे बढ़कर, आगे चलकर, उस अवस्था में, इसके अतिरिक्त; -फिर—(अव्य.) बार-बार; -क्या है?—तब तो कोई चिन्ता की बात नहीं है; -भी—(अव्य.) तो भी ।
 फिरक—(हि. स्त्री.) सामग्री ढोने की एक प्रकार की छोटी गाड़ी ।
 फिरकना—(हि. क्रि. अ.) किसी गोल वस्तु का एक स्थान पर घूमना, थिरकना, नाचना ।
 फिरकी—(हि. स्त्री.) लड़कों का नचाने का एक खिलौना, मलखंम का एक व्यायाम. मल्लयुद्ध की एक युक्ति, तागा बटने की तकली के नीचे लगा हुआ धातु आदि का गोल टुकड़ा, धागा नपटने की छोटी नली ।
 फिरकैयां—(हि. स्त्री.) चक्कर ।

फिरता—(हि. पुं.) अस्वीकार; (वि.) वापस, लौटाया हुआ ।
 फिरना—(हि. क्रि. अ.) विचरना, टहलना, चक्कर या फेरा लगाना, इधर-उधर चलना, ऐंठा जाना, पलटना, विपरीत होना, मुड़ना, प्रचारित होना, झुकना, विरुद्ध होना, लड़ने को तैयार हो जाना, स्थिति बदलना, दूसरी ओर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान को कई बार आना-जाना, वापस होना, उलटा होना, प्रवृत्त होना; (मुहा.) जी फिर जाना—विरक्त या उदासीन होना; सिर फिरना—बुद्धि भ्रष्ट होना, पागल होना ।
 फिरवा—(हि. पुं.) गले में पहनने का सोने का एक गहना ।
 फिरवाना—(हि. क्रि. स.) फेरने या फिराने का काम दूसरे से कराना ।
 फिराना—(हि. क्रि. स.) इधर-उधर चलाना, चक्कर देना, नचाना, विचलित करना, बात पर स्थिर न रहने देना, पलटाना, घुमाना, ऐंठना, मरोड़ना, स्थिति बदलना, बारंबार फेरे लगवाना ।
 फिरि—(हि. अव्य.) देखें 'फिर' ।
 फिरिहरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।
 फिरिहरी—(हि. स्त्री.) बच्चों का नचाने का खिलौना, फिरकी ।
 फिल्ली—(हि. स्त्री.) लोहे की छड़ जो करघे के तूर में लगाई जाती है, पिंडली ।
 फिस—(हि. वि.) कुछ नहीं; (मुहा.) टाँयें टाँयें फिस—धूमधाम दिखाई पड़े पर परिणाम कुछ न निकले ।
 फिसड्डी—(हि. वि.) जो काम में पीछे रह जाय, जो किसी काम में बढ़ न सके, जिसका कुछ किया न हो सके ।
 फिसफिसाना—(हि. क्रि. अ.) शिथिल होना, ढीला पड़ना ।
 फिसलन—(हि. स्त्री.) फिसलने की क्रिया या भाव, पिच्छलता ।
 फिसलना—(हि. क्रि. अ.) चिकनाहट और गीलापन के कारण पैर का न जमना, झुकना, प्रवृत्त होना ।
 फिसलाना—(हि. क्रि. स.) किसी के फिसलने का साधन होना ।
 फीका—(हि. वि.) नीरस, स्वादहीन, मलिन, जो चटकीला न हो, प्रवाहहीन, व्यर्थ, कान्तिहीन, धूमिल, निष्फल ।
 फीता—(हि. पुं.) सूत या रेशम की पतली पट्टी, जूता कसने का धागा ।
 फीफरी—(हि. स्त्री.) देखें 'फिफरी' ।

फोली—(हि. स्त्री.) घुटने के नीचे एड़ी तक का भाग, पिंडली ।
 फुंकना—(हि. क्रि. अ.) भस्म होना, जलना, मुंह में भरी हुई हवा का वेग से निकलना, नष्ट होना; (पुं.) वाँस, पीतल आदि की नली, प्राणियों के शरीर में मूत्र रहने का अवयव, मूत्राशय ।
 फुंकनी—(हि. स्त्री.) वाँस, पीतल आदि की नली जिसमें मुंह की हवा फुंकर आग को दहकाने के लिये उस पर छोड़ते हैं, छोटी भाथी ।
 फुंकरना—(हि. क्रि. अ.) मुंह से हवा छोड़ना ।
 फुंकवाना—(हि. क्रि. स.) फुंकने का काम दूसरे से कराना, मुंह से हवा का झोंका निकलवाना, भस्म कराना, जलाना ।
 फुंकाना—(हि. क्रि. स.) फुंकने का काम कराना ।
 फुंकार—(हि. पुं.) फूलकार ।
 फुंदना—(हि. पुं.) फूल के आकार की गाँठ जो झालर आदि के छोर पर शोभा के लिये बाँधी जाती है, शब्दा ।
 फुंदिया—(हि. स्त्री.) फुंदना ।
 फुंदी—(हि. स्त्री.) फंदा, गाँठ, विदी, टीका ।
 फुंसी—(हि. स्त्री.) छोटी फोड़िया ।
 फुआरा—(हि. पुं.) देखें 'फुहारा' ।
 फु—(सं. पुं.) तुच्छ वाक्य ।
 फुक—(सं. पुं.) पक्षी ।
 फुकना—(हि. क्रि. अ., पुं.) देखें 'फुंकना' ।
 फुकाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'फुंकाना' ।
 फुगना—(हि. क्रि. स.) खोलना ।
 फुचड़ा—(हि. पुं.) वह सूत या रेशा जो कपड़े, चटाई आदि की बुनावट में बाहर निकला रहता है ।
 फुट—(सं. पुं.) साँप का फन; (हि. वि.) अयुग्म, जिसका किसी से संबंध न हो, फुटकर ।
 फुटकर (ल)—(हि. वि.) विषम, अकेला, थोड़ा, जो इकट्ठा न हो, जिसका जोड़ा न हो, भिन्न-भिन्न, कई प्रकार का, जिसका कोई क्रम न हो; (पुं.) रेजगारी फुटका—(हि. पुं.) फफोला, धान का लावा ।
 फुटकी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी चिड़िया, फुदकी, दाने जैसे उमड़े हुए कण जो दूध आदि के ऊपर छिटके हुए दिखाई पड़ते हैं, रुधिर, पीन आदि का छौटा जो कपड़े आदि पर दिखाई पड़ता है ।
 फुट-मत—(हि. पुं.) मत-भेद ।
 फुटेहरा—(हि. पुं.) मटर या चने का भूना हुआ दाना जिसका छिलका फटकर

अलग हो गया हो ।
फुटल—(हि. वि.) देखें 'फुटल' ।
फुट—(हि. वि.) देखें 'फुट' ।
फुटक—(सं. पुं.) एक प्रकार का वस्त्र ।
फुटल—(हि. वि.) झुंड या समूह से अलग, अकेला रहनेवाला, जिसका जोड़ न हो, हतभाग्य, अमागा ।
फुत्कार—(सं. पुं.) फूंक, मुँह से वेग से हवा छोड़ने का शब्द, क्रिया आदि ।
फुत्कृति—(सं. स्त्री.) देखें 'फुत्कार' ।
फुदकना—(हि. क्रि. अ.) उछल-उछलकर कूदना, फूल न समाना, उमंग में आना ।
फुदकी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी चिड़िया ।
फुनंग—(हि. स्त्री.) वृक्ष या शाखा का अगला भाग, फुनगी ।
फुन—(हि. अव्य.) पुनः, फिर से ।
फुनगी—(हि. स्त्री.) वृक्ष या शाखाओं का अग्र-भाग, फुनगी, टुंसा ।
फुनना—(हि. पुं.) देखें 'फुदना' ।
फुनफुनि—(हि., अव्य.) वारंवार ।
फुफुस—(सं. पुं.) फेफड़ा जो हृदय के दोनों ओर रहता है ।
फुफंदी—(हि. स्त्री.) डोरी या गाँठ जो लहंगे या स्त्रियों की साड़ी में कसी जाती है, नीवी ।
फुफकाना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'फुफकारना' ।
फुफकार—(हि. पुं.) फुत्कार, हवा का शब्द जो साँप के मुख से निकलता है ।
फुफकारना—(हि. क्रि. अ.) फुत्कार करना ।
फुफी—(हि. स्त्री.) देखें 'फुफी' ।
फुफू—(हि. स्त्री.) देखें 'फुफी' ।
फुफरा—(हि. वि.) फूफा के नाते का ।
फुर—(हि. स्त्री.) पक्षी का पर फड़फड़ाने का शब्द; (वि.) सत्य, सच्चा ।
फुरकाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'फड़काना' ।
फुरती—(हि. स्त्री.) शीघ्रता ।
फुरतीला—(हि. वि.) जो मन्द न हो, तेज ।
फुरना—(हि. क्रि. अ.) सच्चा ठहरना, पूरा उतरना, प्रभाव उत्पन्न होना, प्रकाशित होना, चमक उठना, सफल होना, मुख से शब्द निकलना, उदय होना, फड़कना, हिलना ।
फुरफुर—(हि. स्त्री.) उड़ने में पर फड़फड़ाने से उत्पन्न हलका शब्द ।
फुरफुराना—(हि. क्रि. अ., स.) फुरफुर शब्द करना, हलकी वस्तु का लहराना, उड़ने में परों से शब्द निकलना, कान में रूई की फुरेरी फिराना ।
फुरफुराहट—(हि. स्त्री.) पंख फड़फड़ाने का भाव, क्रिया या शब्द ।

फुरफुरी—(हि. स्त्री.) देखें 'फुरफुराहट' ।
फुरमान—(हि. पुं.) राजा की आज्ञा ।
फुरमाना—(हि. क्रि. अ.) आदेश देना ।
फुरहरना—(हि. क्रि. अ.) स्फुरित होना, हिलना ।
फुरहरी—(हि. स्त्री.) परों को फुलाकर फड़फड़ाने का शब्द, फुरफुराहट, कप-कपी, रोमांच, कपड़े आदि का हवा में हिलने से उत्पन्न शब्द, फुरेरी ।
फुराना—(हि. क्रि. स.) प्रमाणित करना ।
फुरेरी—(हि. स्त्री.) रोमांचयुक्त कप-कपी, रोंगटे खड़े होना, रूई लपेटी हुई सीक जो तेल, इत्र आदि में डुबोकर कान में लगाई जाती है; (मुहा.)—लेना—रोमांच से कांपना ।
फुरती—(हि. स्त्री.) देखें 'फुरती' ।
फुलका—(हि. पुं.) पतली हलकी रोटी, चपाती, फफोला, छाला, छोटी कड़ाही ।
फुलचुही—(हि. स्त्री.) एक छोटी चिड़िया जो सर्वदा फूलों पर उड़ती फिरती है ।
फुलझड़ी, **फुलझरी**—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की अग्निझड़ी जिसमें से फूलों के समान चिनगारियाँ निकलती हैं, विवाद या कलह उत्पन्न करनेवाली बात या स्त्री ।
फुलनी—(सं. स्त्री.) ऊसर में होनेवाली एक प्रकार की घास ।
फुलमती—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
फुलरा—(हि. पुं.) देखें 'फुदना' ।
फुलवर—(हि. पुं.) एक प्रकार का कपड़ा जिस पर रेशम के बेल-बूटे कड़े होते हैं ।
फुलवाई—(हि. स्त्री.) देखें 'फुलवारी' ।
फुलवार—(हि. पुं.) प्रसन्न ।
फुलवारी—(हि. स्त्री.) फूलों का उद्यान या बगीचा, वह उत्सव जिसमें फूलों की सजावट होती है; कागज के बने हुए फूल, वृक्ष आदि जो शोभा के लिए वारात के साथ निकाले जाते हैं ।
फुलसरा—(हि. पुं.) काले रंग की एक चिड़िया ।
फुलसुधी—(हि. स्त्री.) एक छोटी चिड़िया, फुलचुही ।
फुलहारा—(हि. पुं.) झाली ।
फुलाई—(हि. स्त्री.) फूलने का भाव या क्रिया ।
फुलाना—(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु को हवा भरकर फूलाना, गर्वित करना, अति आनन्द देकर आपे से बाहर करना, फूलों से युक्त करना, रोमांचित करना; (मुहा.) मुँह फुलाना—रूठना ।
फुलायल—(हि. पुं.) देखें 'फुलेल' ।
फुलाव—(हि. पुं.) फूलने का भाव या अवस्था ।
फुलावट—(हि. स्त्री.) फूलने की क्रिया

था भाव, उमाड़, सूजन ।
फुलावा—(हि. पुं.) स्त्रियों के सिर के वालों की चोटी, फुदनेवाली चोटी ।
फुलिंग—(हि. पुं.) स्फुलिंग, चिनगारी ।
फुलिया—(हि. स्त्री.) कील या काँटा जिसका माथा फला हुआ हो, कील या काँटे के आकार की कोई वस्तु जिसका सिरा गोल और उमड़ा हुआ हो, कान में पहनने का लौंग नाम का गहना ।
फुलुरिया—(हि. स्त्री.) छोटे बच्चों के चूतड़ के नीचे बिछाने का मोटा कपड़ा आदि ।
फुलेरा—(हि. पुं.) फूल की वनी हुई छतरी जो देवताओं की मूर्ति के ऊपर लगाई जाती है ।
फुलेल—(हि. पुं.) सुगंधित तेल, फूलों के सुगंध से वासा हुआ तेल ।
फुलेली—(हि. स्त्री.) फुलेल रखने का काँच का पात्र ।
फुलेहरा—(हि. पुं.) उत्सवों में द्वार पर लगाने के सूत, रेशम आदि के बने हुए गुच्छेदार बंदनवार ।
फुलोरा—(हि. पुं.) बड़ी फुलोरी, पकौड़ा ।
फुलोरी—(हि. स्त्री.) चने, मटर आदि के बेसन की बरी, बेसन की पकौड़ी ।
फुल्ल—(सं. वि.) विकसित, फूला हुआ; (पुं.) पुष्प, फल; —**दाम**—(पुं.) उन्नीस अक्षरों का एक वर्णवृत्त; —**न**—(वि.) वायु से भरा हुआ; —**लोचन**—(वि.) प्रफुल्ल नेत्रोंवाला ।
फुल्लाविद—(सं. पुं.) फूला हुआ कमल ।
फुल्ली—(हि. स्त्री.) फुली, फुलिया, फूल के आकार का कोई आम्रपण ।
फुवारा—(हि. पुं.) देखें 'फुहारा' ।
फुस—(हि. स्त्री.) अति मन्द स्वर ।
फुसकारना—(हि. क्रि. अ.) फूंक मारना ।
फुसड़ा—(हि. पुं.) देखें 'फुचड़ा' ।
फुसफसा—(हि. वि.) जो पुष्ट न हो, मंद, नरम, ढीला, स्पर्श मात्र से टूट जानेवाला ।
फुसफसाना—(हि. क्रि.) अति मन्द स्वर में बोलना ।
फुसलाना—(हि. क्रि. स.) भूलावा देकर शान्त और चुप करना, बहलाना, मीठी-मीठी बातें कहकर, अनुकूल करना, किसी ओर प्रवृत्त करने के लिये इधर-उधर की बातें करना, बहकाना ।
फुहार—(हि. पुं.) जलकण, पानी का छींटा, महीन बूंदों की झड़ी, झींसी ।
फुहारा—(हि. पुं.) जल को यांत्रिक टोंटी जिसमें से महीन धार या छींटे वेग से ऊपर की ओर उठते और फैलकर नीचे गिरते हैं, जल का महीन छींटा ।

फुही—(हि. स्त्री.) पानी का महीन छीटा, महीन-महीन बूंदों की झड़ी।
फूंक—(हि. स्त्री.) वह हवा जो ओठों को मिलाकर या सिकोड़कर निकाली जाय, सांस, मुँह की हवा, मन्त्र पढ़कर मुँह से छोड़ी हुई हवा, गाँजे आदि का कश; (मुहा.)—**निकल जाना**—मृत्यु होना; **झाड़-फूंक**—(पुं.) तंत्र-मंत्र की विधि।
फूंकना—(हि.क्रि.स.)ओठों को मिलाकर या से सिकोड़कर वेग से हवा छोड़ना, वातुओं को रासायनिक रीति से भस्म करना, फूंककर प्रज्वलित करना या जलाना, मन्त्र आदि पढ़कर किसी पर फूंक मारना, बाँसुरी आदि वाजों को मुख से हवा फूंककर वजाना, कष्ट देना, चारों ओर फैलाना, व्यर्थ व्यय करना; (मुहा.) **फूंक-ताप डालना**—सब धन व्यय कर डालना; **फूंक-फूंककर पैर रखना**—बड़ी सावधानी से कोई काम करना।
फूँका—(हि. पुं.) भाथी या नली से आग पर फूँक मारने की क्रिया, फोड़ा, फफोला, वाँस की नली में जलन उत्पन्न करनेवाली दवाओं को भरकर गाय के धन में लगाकर फूँकना जिससे उसका सब दूध धन में आ जाय।
फूँद, **फूँदा**—(हि. स्त्री.) फूँदना, झब्बा।
फूई—(हि.स्त्री.) मक्खन के ऊपर का गाज जो उसको तपाने पर उठता है, फुहारा, फफूँदी।
फूट—(हि. स्त्री.) फूटने की क्रिया या भाव, विरोध, वैर, बिगाड़, एक प्रकार की बड़ी ककड़ी जो पकने पर फूट जाती है।
फूटन—(हि. स्त्री.) किसी वस्तु का वह टुकड़ा जो फूटकर अलग हो गया हो, शरीर के जोड़ों की पीड़ा।
फूटना—(हि. क्रि. अ.) भग्न होना, खण्ड होना, नष्ट होना, बिगड़ना, शरीर पर फूसियों के रूप में निकलना, अंकुर, शाखा आदि के रूप में निकलना, अँखुआ फूटना, व्याप्त होना, फैलना, मिला न रहना, कली का तिलना, शब्द का मुख से निकलना, शरीर के जोड़ों में पीड़ा होना, किसी पनीली वस्तु का रसकर निकलना, मेद खुलना, रोक या दबाव का हट जाना, खोलते हुए पानी में बुलबुले निकलना या छूटना, भीतर से झोक के साथ निकलना, प्रकाशित होना, दूसरे पक्ष में जाना, मेड़, बाँध आदि का टूट जाना; (मुहा.) फूटी आँखों न भाना—बहुत बुरा लगना; फूट-फूटकर

रोना—अति विलाप करना।
फूटा—(हि. वि.) भग्न, टूटा हुआ।
फूटकार—(सं. पुं.) मुख से हवा छोड़ने का शब्द, फुत्कार।
फूफा—(हि.पुं.) पिता की वहिन का पति।
फूफी—(हि. स्त्री.) पिता की वहिन, बूआ।
फूल—(हि. पुं.) पुष्प, कुसुम, कुष्ठ रोग का सफेद चिह्न, श्वेत कुष्ठ, पहली बार की उतारी हुई देशी मदिरा, मासिक धर्म में निकलनेवाला स्त्रियों का रुधिर, फुलिया, फूल के आकार के बेल-बूटे, स्त्रियों के पहनने का एक प्रकार का गहना, दीपक का गुल, आग की चिनगारी; ताँबे और राँगे के मेल से बनी हुई एक मिश्र-धातु, सूखे साग या भाँग की पत्तियाँ, गर्माशय, किसी वर्ग, वस्तु आदि का उत्तम मेद, घुटने पर की गोल हड्डी, टिकिया, वह हड्डी जो शव जलाने पर बच जाती है; (स्त्री.) फूलने का भाव, स्फुल्लिग; (मुहा.)—**झड़ना**—मधुर और प्रिय शब्द बोलना;—**सँघकर रहना**—बहुत कम आहार करना;—**सा**—(वि.) सुन्दर और सुकुमार।
फूलकारी—(हि. स्त्री.) बेल-बूटे बनाने का काम।
फूलगोभी—(हि. स्त्री.) गोभी की एक जाति जिसमें मंजरियों का बंधा हुआ ठोस पिण्ड होता है जो तरकारी के रूप में खाया जाता है।
फूलडोल—(हि. पुं.) चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन होनेवाला एक उत्सव।
फूलदान—(हि. पुं.) काँच, पीतल, चीनी मिट्टी आदि का गिलास के आकार का फूलों के गुलदस्ते रखने का पात्र।
फूलदार—(हि. वि.) जिस पर बेल-बूटे या कशीदे काढ़कर सुंदर रूप से बनाये गये हों।
फूलना—(हि.क्रि.अ.) फूलों से युक्त होना, हवा भरने से उभड़ जाना, विकसित होना, न खिलना, घमंड करना, मोटा होना, रूठना, शरीर के किसी भाग का सृजना, प्रफुल्ल होना, धानन्दित होना, भीतर से किसी वस्तु के भर जाने से बाहरी भाग बढ़ जाना; (मुहा.)—**फलना**—समृद्ध और सुखी होना; प्रफुल्ल होना; **फूला-फूला फिरना**—आनन्द में घमना; **फूले न समाना**—अति आनंदित होना; **मुह फूलना**—रूठना।
फूलबिरज—(हि.पुं.) एक प्रकार का धान।
फूलमती—(हि. स्त्री.) एक देवी का नाम,

एक प्रकार की रागिनी।
फूला—(हि.पुं.) आँखों का एक रोग, ऊख का रस पकाने का बड़ा कड़ाहा, लावा।
फूली—(हि. स्त्री.) सफेद चिह्न जो आँख की पुतली पर पड़ जाता है, एक प्रकार की सज्जी।
फूस—(हि. पुं.) छप्पर आदि छाने की सूखी लंबी घास, तृण, तिनका, खर।
फूहड़, **फूहर**—(हि. वि.) जो किसी काम को भली-भाँति न कर सके, जो वेदंगी बातें करता हो, देखने में कुरूप या गंदा।
फूहा—(हि. पुं.) रुई का पोला गोला।
फूही—(हि. स्त्री.) पानी की महीन बूंद, महीन बूंदों की झड़ी, झींसी।
फूँक—(हि.स्त्री.) फूँकने की क्रिया या भाव।
फूँकना—(हि.क्रि.स.) हाथ से इस प्रकार की गति देना कि वस्तु दूर जा गिरे, एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर डालना, मल्ल-युद्ध में पटकना, अपने ऊपर का भार दूसरे पर डालना, गँवाना, खोना, जुए में पासे आदि को भूमि पर लड़काना, अपव्यय करना, चलाना, उछालना, छोड़ना, असावधानी से इधर-उधर हटाना।
फूँकरना—(हि. क्रि. अ.) चीत्कार सहित रोना, फूँकरना।
फूँट—(हि.स्त्री.) कमर का मण्डल या घेरा, कमर में बाँधा हुआ कपड़ा, फूँटा, लपेट, फूँटने की क्रिया या भाव; (मुहा.)—**घरना**—कमर पकड़ लेना जिसमें कोई भाग न सके।
फूँटना—(हि.क्रि.स.) लेप या लेई की तरह की किसी वस्तु को हाथ या अँगुलियों से मथना, ताँश के पत्तों को उलट-पलट करके अच्छी तरह मिलाना।
फूँटा—(हि. पुं.) कमर का घरा, लपेट, सिर पर लपेटने की छोटी पगड़ी।
फूँटी—(हि. स्त्री.) अटेरन पर लपेटा हुआ सूत।
फूँकरना—(हि. क्रि. अ.) आच्छादनरहित होना, गंगा होना, फूँकरना।
फूँकारना—(हि. क्रि. स.) खोलना या गंगा करना।
फूँन—(सं. पुं.) जल के ऊपर बुलबुलों का समूह, झाग, नाक का मल, नेटा।
फूँक—(सं. पुं.) टिकिया के आकार का एक मिष्टान्न।
फूँतका—(सं. स्त्री.) पीठी।
फूँतप—(सं. वि.) फूँत पीनेवाला।
फूँतमेह—(सं. पुं.) एक प्रकार का प्रमेह

जिसमें मूत्र ज्ञाग या फेन की तरह निकलता है।

फेनल—(सं. वि.) फेनयुक्त, फेनिल।

फेनाग्र—(सं. पुं.) बूदबूद, बूलबूला।

फेनिका—(सं. स्त्री.) फेनक नाम की मिठाई।

फेनिल—(सं. पुं.) बेर का फल, मैनफल, रीठे का पेड़; (वि.) फेनयुक्त।

फेनी—(हिं. स्त्री.) घी में छानी हुई सूत के लच्छे के आकार की मिठाई।

फेफड़ा—(हिं. पुं.) शरीर के भीतर छाती की हड्डियों के नीचे का वह अवयव जिसकी क्रिया से जीव साँस लेते हैं, फुफ्फुस।

फेफड़ी—(हिं. स्त्री.) गरमी से ओठों पर पड़नेवाली पपड़ी।

फेफरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'फेफड़ी'।

फेरंड—(सं. पुं.) शृगाल, सियार।

फेर—(सं. पुं.) शृगाल, सियार।

फेर—(हिं. पुं.) घुमाव, चक्कर, उलट-फेर, मोड़, झुकाव, उलझन, भ्रम, संशय, हानि, घाटा, भूत-प्रेत का प्रभाव, बदला-बदला, अन्तर, भेद, घोखा, दुविधा, झंझट, उपाय, ढंग, युक्ति, दिशा, ओर; (अव्य.) पुनः, एक बार फिर; (मुहा.)—**खाना-धूमकर जाना**;—**में पड़ना-खोखे में पड़ना**; **दिनों का फेर-समय या दशा का परिवर्तन**; **निन्यानबे का फेर-धन संचित करने की लालसा**;

हेर-फेर—(पुं.) उलट-फेर, लेन-देन।

फेरना—(हिं. क्रि. स.) पलटना, बदलना, बारबार दोहराना, स्थान या क्रम बदलना, प्रचार करना, इस बल से उस बल करना, घुमाना, घोंड़े आदि को दौड़ने की शिक्षा देना, लौटाना, ऐंठना, मरोड़ना, माला जपना, भिन्न दिशा में प्रवृत्त करना, मुद्गार भाँजना, इधर-उधर ले जाना, पीतना, तह चढ़ाना; (मुहा.) **पानी फेरना-नष्ट करना**।

फेर-पलटा—(हिं. पुं.) द्विरागमन, गौना।

फेरफार—(हिं. पुं.) परिवर्तन, उलटफेर, चक्कर, अन्तर, घुमाव-फिराव, पेंच, टाल-मटूल, बहाना।

फेरब—(सं. पुं.) सियार, राक्षस; (वि.) धूर्त।

फेरबट—(हिं. स्त्री.) फेरने का भाव, लपेटने में एक बार का घुमाव, पेंच, अन्तर, घुमाव-फिराव, फेरीरी।

फेरवा—(हिं. पुं.) सोने के तार को दो-तीन बल लपेटकर बनाया हुआ छल्ला।

फेरा—(हिं. पुं.) परिक्रमण, चक्कर, फिर

आना, उलट-फेर, बारंबार आना-जाना, आवर्त, घेरा, मण्डल, लपेटने में एक बार का घुमाव;—**फेरी**—(स्त्री.) हेरा-फेरी, इधर का उधर करना।

फेरि—(हिं. अव्य.) पुनः, फिर से।

फेरी—(हिं. स्त्री.) परिक्रमा, प्रदक्षिणा, वह चरखी जिससे रस्सी पर ऐंठन चढ़ाई जाती है, कई बार आना-जाना, चक्कर, किसी फकीर का किसी वस्ती में भिक्षा के लिये फेरा लगाना, घूम-फिरकर सौदा बेचना;—**वाला**—(पुं.) घूम-घूमकर सौदा बेचनेवाला व्यापारी।

फेरभा—(हिं. पुं.) देखें 'फेरवा'।

फेरौरी—(हिं. स्त्री.) छाजन से टूटे-फूटे खपरैल निकालकर उनके स्थान में नये खपरैल बैठाने की क्रिया।

फेल—(सं. पुं.) उच्छिष्ट, जूटा पदार्थ।

फेला—(सं. स्त्री.) जूटा पदार्थ।

फेहरिस्त—(हिं. स्त्री.) सूची।

फैल—(हिं. पुं.) विस्तार, लंबाई-चौड़ाई, फैलाव।

फैलना—(हिं. क्रि. अ.) अधिक स्थान घेरना, बहुतायत से मिलना, पूरी तरह से तनना, आकार का बढ़ना, मुड़ा या सिकुड़ा न रहना, (समाचार) चारों ओर पहुँचना, आग्रह करना, प्रचारित या प्रसिद्ध होना, पसरना, स्थूल होना, मोटाना, विखरना, पूरा खुलना, संख्या बढ़ना, व्यापक होना, जिद या हठ करना, छितराना, विखरना, छा लेना।

फैलाना—(हिं. क्रि. स.) अधिक स्थान घेरवाना, इधर-उधर दूर तक पहुँचाना, छेद या गड्ढे को बड़ा करना, हिंसाव-किताव करना, वृद्धि करना, बढ़ाना, गुणा-भाग की क्रिया ठीक होने की परीक्षा करना, पसारना, प्रचलित करना, पूरा तानकर किसी ओर बढ़ाना, विखरना, व्यापक करना, प्रसिद्ध करना, चारों ओर प्रकट करना।

लाव—(हिं. पुं.) विस्तार, प्रचार, लंबाई-चौड़ाई।

फौक—(हिं. पुं.) तीर के पीछे का सिरा जिसमें पर लगाये जाते हैं, फटन।

फौका—(हिं. पुं.) लंबा और पोला चोंगा।

फौका गोला—(हिं. पुं.) तोप का लंबा गोला।

फौफर—(हिं. वि.) खोखला।

फौफी—(हिं. स्त्री.) छोटी नली।

फोकट—(हिं. वि.) निःसार, पोला, व्यर्थ।

फोकला—(हिं. पुं.) छिलका।

फोट—(हिं. पुं.) स्फोट, धड़ाका।

फोटा—(हिं. पुं.) वृंद, तिलक, वृंदा।

फोड़ना—(हिं. क्रि. स.) किसी वस्तुके टुकड़े-टुकड़े करना, फूट उत्पन्न करके विग्रह करना, भेद खोल देना; अंकुर, कनखे आदि का निकलना, शाखा के रूप में अलग होकर किसी सीध में जाना, किसी पोली वस्तु को आघात मारकर भंग करना, साथ छुड़ाना, शरीर में धाव या फोड़े निकलना, भेद-भाव उत्पन्न करना, विदीर्ण करना।

फोड़ा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का शोथ या उमाड़ जो शरीर पर रघिर के विगड़ने से उत्पन्न हो जाता है। (इसमें जलन और पीड़ा होती है और रघिर सड़कर पीव हो जाता है।)

फोड़िया—(हिं. स्त्री.) छोटा फोड़ा।

फोया—(हिं. पुं.) फाहा।

फोरना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'फोड़ना'।

फोहारा—(हिं. पुं.) देखें 'फुहारा'।

फौआरा—(हिं. पुं.) देखें 'फुहारा'।

फौकना—(हिं. क्रि. अ.) डोंग हाँकना, बढ़वढ़कर वातें करना।

फौज—(अ. स्त्री.) सेना, जनसमूह;—**दार**—(पुं.) सेनानायक;—**दारी**—(स्त्री.) फौजदार का पद, मारपीट, लड़ाई।

फौजी—(अ. वि.) फौज-संबंधी; (पुं.) सैनिक।

फौत—(अ. स्त्री.) मरना, गुजरना।

फौती—(अ. वि.) मृत्यु-संबंधी।

फौलाद—(अ. पुं.) कड़ा और पक्का लोहा।

फौलादी—(अ. वि.) फौलाद का, बहुत कड़ा और मजबूत।

फांस—(पुं.) पश्चिम यूरोप में फ्रांसीसियों की जन्मभूमि और राज्य।

ब

ब—हिन्दी वर्णमाला का तेईसवाँ व्यंजन तथा पवर्ग का तीसरा वर्ण, इसका उच्चारण दोनों ओठों को मिलाकर किया जाता है।

बंक—(हिं. वि.) टेढ़ा, तिरछा, पुरुपायीं, दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो; (अं. पुं.) वह संस्था जो लोगों के रूपये अमानत के रूप में रखती और सूद के साथ माँगने पर वापस देती है।

बंकट—(हिं. वि.) बक्र, टेढ़ा।

बंकनाल—(हिं. स्त्री.) सुनारों की महीन फूंकनी जिससे दीपक की ली फूंककर वे

महीन टाँके जोड़ते हैं।
 वंकराज—(हि.पुं.) एक प्रकार का सर्प।
 वंकावा—(हि.पुं.) एक प्रकार का अगहनिया घान।
 वंकसाल—(हि.पुं.) जहाज का बड़ा कमरा।
 वंका—(हि.वि.) टेढ़ा, तिरछा, बलवान्।
 वंकाई—(हि.स्त्री.) टेढ़ापन, तिरछापन।
 वंकी—(हि.वि., स्त्री.) देखें 'वंका'।
 वंकुर—(हि.पुं.) देखें 'वंक', टेढ़ा।
 वंकुरता—(हि.स्त्री.) वक्रता, टेढ़ापन।
 वंग—(हि.पुं.) बंगाल।
 वंगला—(हि.पुं.) एक खंड का चारों ओर से खुला हुआ घर जिसमें सब ओर बरामदे होते हैं, घर की ऊपरी छत पर बना हुआ हवादार कमरा, बंगाल देश का पान; (स्त्री.) बंगाल की भाषा; (वि.) बंगाल-संबंधी।
 बंगाल—(हि.पुं.) बंग प्रान्त।
 बंगाला—(हि.पुं.) एक रागिनी का नाम।
 बंगालिका—(हि.स्त्री.) एक रागिनीकानाम।
 बंगालिन—(हि.स्त्री.) बंगाली स्त्री।
 बंगाली—(हि.वि., पुं.) बंगाल देश का (निवासी), संपूर्ण जाति का एक राग; (स्त्री.) बंगाल देश की भाषा।
 बंग—(हि.पुं.) लड़कों का नाचने का एक खिलौना।
 बंगोमा—(हि.पुं.) एक प्रकार का कछुआ।
 वंचक—(हि.पुं.) घूर्त, पाखंडी।
 वंचकता, वंचकताई—(हि.स्त्री.) घूर्तता।
 वंचन—(हि.पुं.) छल, घूर्तता।
 वंचनता—(हि.स्त्री.) ठगी, छल।
 वंचना—(हि.स्त्री.) छल, ठगी; (क्रि.स.) ठगना, धोखा देना।
 वंचर—(हि.पुं.) देखें 'वनचर'।
 वंचवाना—(हि.क्रि.स.) दूसरे को पढ़ने में प्रवृत्त करना, पढ़वाना।
 वंचित—(सं.वि.) देखें 'वंचित'।
 वंचना—(हि.क्रि.स.) इच्छा करना, चाहना।
 वंचनीय, वंचित—(हि.वि.) देखें 'वांचित'।
 वंच—(हि.पुं.) देखें 'वनिज', एक प्रकार का पहाड़ी बलूत का वृक्ष।
 वंचर—(हि.पुं.) वह भूमि जिसमें अन्न उत्पन्न नहीं होता, ऊसर।
 वंचारा—(हि.पुं.) देखें 'वनजारा'।
 वंचुल—(हि.पुं.) अशोक वृक्ष।
 वंचा—(हि.वि.स्त्री.) जिसकी संतान न हो; वांछ; (स्त्री.) वांछ स्त्री; (वि.) न फलनेवाला (पेड़)।
 वंचना—(हि.क्रि.स.) अलग-अलग विभाग होना, कई व्यक्तियों को किसी वस्तु का

अलग-अलग भाग दिया जाना; (पुं.) देखें 'वटना'।
 वंचवाई—(हि.स्त्री.) वांटने का शुल्क।
 वंचवाना—(हि.क्रि.स.) वितरण करवाना, सबको अलग-अलग भाग दिलवाना, वांटने का काम दूसरे से करवाना।
 वंचवारा—(हि.पुं.) वांटने की क्रिया, विभाग।
 वंचवैया—(हि.वि.) वांटनेवाला।
 वंचा—(हि.पुं.) चौकोर या गोल छोटा डब्बा; (वि.) छोटे आकार का।
 वंचाई—(हि.स्त्री.) वितरण, वांटने का काम, शुल्क या भाव, खेती की वह रीति जिसमें किसान भूमि की लगान न देकर उपज का निर्धारित अंश भूमिधर को देता है।
 वंचाना—(हि.क्रि.स.) अंश ले लेना, भाग करा लेना, किसी काम में अंधा-धारी होने के लिये अथवा दूसरे का बोझ हलका करने के लिये योगदान करना।
 वंचान—(हि.वि.) वंचानेवाला, भाग करनेवाला।
 वंचा—(हि.स्त्री.) छोटा वंचा, पशुओं को फँसाने का जाल।
 वंचैया—(हि.पुं.) भाग करनेवाला, वंचानेवाला।
 वंचा—(हि.पुं.) तरकारी के रूप में खाया जानेवाला कंद जो गोल और गाँठदार होता है।
 वंची—(हि.स्त्री.) मिरजई, बगलवन्दी, फंतुही।
 वंचेर—(हि.पुं.) खपरैल की छाजन के बीच में रखने की मोटी लंबी लकड़ी।
 वंचगी—(फा.स्त्री.) नमस्कार, प्रणाम।
 वंचगीभी—(हि.स्त्री.) करमकल्ला, पात-गोभी।
 वंचन—(हि.पुं.) देखें 'वंचन'; रोली, इंगुर, सिन्दूर।
 वंचनता—(हि.स्त्री.) आदर या वन्दना किये जाने की योग्यता।
 वंचनवार—(हि.पुं.) वन्दनमाला, फूल-पत्ते आदि की बनी हुई माला जो शुभ अवसरों पर द्वार पर लटकाई जाती है, तोरण।
 वंचना—(हि.स्त्री.) देखें 'वंचना'; (क्रि.स.) प्रणाम करना।
 वंचनी—(हि.स्त्री.) सिर पर पहनने का स्त्रियों का एक आभूषण; (वि.स्त्री.) वंचनीया; -माल—(स्त्री.) वह लंबी माला जो गले से पैरों तक लटकती हो।
 वंचर—(हि.पुं.) मनुष्य के आकार से मिलता-जुलता एक पशु, कपि, मकँट; (मुहा.) -घुड़की (भभकी)—(स्त्री.) केवल डराने

या घमकाने की डाँट-डपट; (फा.पुं.) समुद्र के किनारे पर का वह स्थान जहाँ जहाज ठहरते हैं; -गाह—(पुं.) बंदर।
 वंचली—(हि.पुं.) एक प्रकार का घान।
 वंचवान—(हि.पुं.) वंचीगृह का रक्षक।
 वंचसाल—(हि.पुं.) वंचीगृह।
 वंचा—(फा.पुं.) सेवक, दास; -निवाज—(वि.) वंचे पर कृपा करनेवाला; -निवाजी—(स्त्री.) कृपा, अनुग्रह; -परवर—(वि.) वंचे का पालन करनेवाला।
 वंचार—(हि.वि.) आदरणीय, पूजनीय, बन्दन करने योग्य।
 वंचाल—(हि.पुं.) देवदाली, घघरवेल।
 वंचि—(हि.स्त्री.) कारावास।
 वंचिया—(हि.स्त्री.) स्त्रियों के सिर पर पहनने का एक आभूषण, वंची।
 वंचिश—(फा.स्त्री.) रोक, प्रतिबंध, रचना उपाय, साजिश।
 वंची—(सं.पुं.) चारणों की एक जाति जो प्राचीन काल में राजाओं की कीर्ति गान करती थी, भाट; (हि.स्त्री.) एक प्रकार का आभूषण जिसको स्त्रियाँ सिर पर पहनती हैं।
 वंचीघर—(हि.पुं.) कारागृह।
 वंचीवान—(हि.पुं.) कंदी।
 वंचक—(फा.स्त्री.) लकड़ीकेकुंदे में लगी हुई लोहे की नली में गोली या कारतूस भरकर चलाया जानेवाला प्रसिद्ध आग्नेयास्त्र।
 वंचकची—(फा.पुं.) वंचक चलाने वाला।
 वंचख—(हि.स्त्री.) देखें 'वंचुक'।
 वंचोबस्त—(फा.पुं.) प्रबंध, इतजाम, सरकारी तौर पर खेतों की पैमाइश, लगान आदि स्थिर करने का काम; -इस्त-मरारी—(पुं.) स्थायी वंचोबस्त।
 वंच—(सं.पुं.) वंचन, गाँठ, शरीर, पानी रोकने का बाँध, योग-साधना की एक मुद्रा।
 वंचक—(सं.पुं.) ऋण के बदले में महाजन के पास रखने की वस्तु, गिरवी, विनिमय, बाँधनेवाला।
 वंचकी—(सं.स्त्री.) व्यभिचारिणी स्त्री, वेश्या, रंडी।
 वंचकर्ता—(हि.पुं.) शिव, महादेव।
 वंचन—(सं.पुं.) बाँधने की क्रिया, रस्ती-आदि जिससे कोई वस्तु बाँधी जाय, वध, हत्या, बाँध का स्थान, वंचीगृह, शरीर का सन्धि-स्थान, शिव, महादेव; (वि.) बाँधनेवाला।
 वंचना—(हि.क्रि.अ.) बाँधा जाना, मुग्ध होना, वचन-बद्ध होना, फँसना, अटकना, बंदी होना, ठीक होना, स्थिर होना; (पुं.)

कोई बाँधने की वस्तु, वह थैली जिसमें स्त्रियाँ सीने-पिरोने की सामग्रियाँ रखती हैं।

बँधनि—(हि. स्त्री.) वह जिसमें कोई वस्तु बँधी हो, उलझाने या फँसाने की वस्तु।

बँधनी—(सं. स्त्री.) शरीर के संधि-स्थानों की मोटी नसें जो अवयवों को बाँधे रहती हैं।

बँधनीय—(सं. वि.) बाँधने योग्य।

बँधमोचनिका—(सं. स्त्री.) एक योगिनी का नाम।

बँधयिता—(सं. पुं.) बाँधनेवाला।

बँधवाना—(हि. क्रि. स.) बाँधने का काम दूसरे से कराना, तालाब, कुआँ आदि बनवाना, नियत कराना।

बँधस्तंभ—(सं. पुं.) हाथी बाँधने का खूँटा।

बँधान—(हि. पुं.) लेन-देन के विषय में निश्चित क्रम या नियम, पानी रोकने का बाँध, संगीत में ताल का सम, वह धन या पदार्थ जो लेन-देन की परिपाटी के अनुसार दिया जाता है।

बँधाना—(हि. क्रि. स.) बाँधने का काम दूसरे से कराना, धारण कराना।

बँधाल—(हि. पुं.) जहाज या नाव की पेंदी में वह स्थान जहाँ पर पानी छेदों से रसकर जमा हो जाता है।

बँधिका—(हि. स्त्री.) ताने की साँथी बाँधने की डोरी।

बँधित—(हि. वि.) बँधा हुआ वद्ध।

बँधी—(हि. स्त्री.) वह जिसमें किसी प्रकार का बँधन हो, बँधेज।

बँधु—(सं. पुं.) सगोत्र, बान्धव, स्वजन, भाई-बंद, मित्र।

बँधुआ, बँधुवा—(हि. पुं.) बंदी।

बँधुक—(सं. पुं.) गुल दुपहरिया नाम का फूल या पौधा।

बँधुजन—(सं. पुं.) आत्मीय, कुटुम्ब।

बँधुता—(सं. स्त्री.) बन्धु होने का भाव, भाईचारा, मित्रता।

बन्धुत्व—(सं. पुं.) मित्रता, बँधुता।

बँधुवा—(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी, व्यभिचारिणी स्त्री।

बन्धुपाल—(सं. पुं.) अपने कुटुम्ब का पालन करनेवाला।

बँधुर—(सं. पुं.) मुकुट, गुल दुपहरिया, बहरा मनुष्य, हंस, काकड़ा सींगी, चिड़िया; (वि.) सुन्दर, नम्र, ऊँचा-नीचा।

बँधुल—(सं. पुं.) रंडी का लड़का; (वि.) सुन्दर।

बँधुर—(सं. वि.) रम्य, सुन्दर।

बँधेज—(हि. पुं.) किसी वस्तु को रोकने

या बाँधने की क्रिया या युक्ति, नियत समय पर तथा नियत रूप में कुछ देने की क्रिया या भाव, प्रतिबन्ध, रकावट, बाजीकरण, नियत समय पर नियत रूप से दिया जानेवाला धन या पदार्थ।

बँध्य—(सं. वि.) धन फल का, बँधनीय।

बँध्या—(सं. स्त्री.) जिस स्त्री को सन्तान न होती हो, बाँझ स्त्री;—तनय—(पुं.) अनहोनी बात;—पुत्र—(पुं.) कभी न होनेवाली बात।

बँधुलिस—(हि. स्त्री.) म्युनिसिपैलिटी आदि का बनाया हुआ सावजनिक मल-त्याग करने का स्थान।

बँधं—(हि. स्त्री.) वम-वम शब्द जो शैव लोग कहा करते हैं, युद्ध के आरंभ में वीरों का उत्साहवर्धक नाद, दंठुमी, नगाड़ा।

बँधा—(हि. पुं.) पानी की कल, जल का सोता, पानी बहाने का नल।

बँधाना—(हि. क्रि. अ.) गाय आदि पशुओं का बाँ-बाँ शब्द करना, रँमाना।

बँधु—(हि. पुं.) बाँस की छोटी पतली नली जिससे चूड़ पिया जाता है।

बँधु—(हि. पुं.) देखें 'बँध', परिवार।

बँधकार—(हि. पुं.) बाँसुरी।

बँधरी—(हि. स्त्री.) बँसी।

बँधलोचन—(हि. पुं.) बाँस का सार-भाग जो उसके जल जाने के बाद सफेद छोटे-छोटे टुकड़ों में पाया जाता है, बँधलोचन।

बँधवाड़ी—(हि. स्त्री.) बाँस की कोठी।

बँधार—(हि. पुं.) भण्डार-घर।

बँधी—(हि. स्त्री.) बाँसुरी, मछली फँसाने का एक उपकरण, धान के खेतों में होनेवाली एक प्रकार की घास, विष्णु, कृष्ण और राम के चरणों का रेखा-चिह्न; (पुं.) एक प्रकार का गेहूँ;—घर—(पुं.) वंशीघर, श्रीकृष्ण।

बँधगी—(हि. स्त्री.) भार ढोने का एक उपकरण जिसमें बाँस के डंडे के दोनों सिरों पर रस्सियों के छीके लटकाये रहते हैं।

बँधिमा—(सं. स्त्री.) बहुत अधिकता।

बँहोली—(हि. स्त्री.) कुरते आदि का हाथ का भाग, आस्तीन।

बँधराना—(हि. क्रि. अ.) पगलाना।

बँधु—(सं. पुं.) बगुला, अगस्त का फूल, कुवेर, एक राक्षस जिसको भीमसेन ने मारा था, बकासुर; (हि. स्त्री.) बकवक, बकवाद।

बकचंदन—(सं. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष।

बकचा—(हि. पुं.) देखें 'बकुचा'।

बकची—(हि. स्त्री.) एक मछली, बकुची।

बकजित्—(सं. पुं.) भीमसेन, श्रीकृष्ण।

बकवक—(हि. स्त्री.) बकवाद।

बकलाना—(हि. क्रि. अ.) किसी बहुत कसैले पदार्थ को खाने से मुख का स्वाद विगड़, जाना।

बकदर्शा—(सं. पुं.) पारावत, कवूतर।

बकध्यान—(हि. पुं.) पाखंडपूर्ण मुद्रा, ऐसी चेष्टा या ढंग जो देखने में सात्त्विक या धार्मिक-जान पड़े परन्तु जिसका भीतरी आशय कपटी और दुष्ट हो।

बकध्यानी—(सं. पुं. वि.) (वह) जो देखने में सीधासादा परन्तु वस्तुतः कपटी हो।

बकना—(हि. क्रि. अ., स.) प्रलाप करना, बड़बड़ाना, ऊटपटांग बातें करना।

बकनिषूदन—(सं. पुं.) भीमसेन, श्रीकृष्ण।

बकपंचक—(सं. पुं.) कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णमासी तक का समय।

बकवक—(हि. स्त्री.) प्रलाप, बकवाद।

बकमौन—(हि. पुं.) अपना उद्देश्य सिद्ध करने के लिये बगुले की तरह भोला बनकर चुपचाप रहने की क्रिया या भाव; (वि.) चुपचाप अपना काम साधनेवाला।

बकयंत्र—(सं. पुं.) मुड़े हुए लंबे गरदन की काँच की गोल पेंदे की शीशी जिसको बँध या हकीम अर्क आदि उतारने के काम में लाते हैं।

बकर—(अ. पुं.) गाय, बैल;—ईद—(स्त्री.) मुसलमानों का एक प्रसिद्ध त्योहार;—कसाव—(पुं.) चिक, कसाई।

बकरना—(हि. क्रि. स.) बेकार बकना, बड़बड़ाना, अपना दोष या अपराध स्वयं स्वीकार करना या कह देना।

बकरम—(अ. पुं.) एक प्रकार का कड़ा कपड़ा जो कालर, आस्तीन आदि में कड़ाई लाने के लिये डाला जाता है।

बकरा—(हि. पुं.) फटे हुए खुर का एक प्रसिद्ध छोटे जाति का चौपाया जिसके छोटी पूँछ और छोटी सींग होता है, (यह जुगाली करता है। कुछ बकरों की ठोड़ी के नीचे दाढ़ी भी होती है।)

बकराना, बकरवाना—(हि. क्रि. स.) दोष या अपराध स्वीकार कराना।

बकल—(हि. पुं.) पेड़ की छाल, फल के ऊपर का छिलका।

बकली—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का सुन्दर लंबा वृक्ष।

बकवाद—(हि. स्त्री.) व्यर्थ वार्ता, बकवक।

बकवादी—(हि. वि.) बकवाद करनेवाला।

वकवाना—(हि. क्रि. स.) वकने के लिये किसी को प्रेरित करना, किसी से वक-वाद कराना ।

वकवास—(हि.स्त्री.) व्यर्थ वातचीत, वक-वक करने का अभ्यास क्रिया आदि ।

वकवृत्ति—(सं.स्त्री.,वि.) कपटाचार, जो वगुले के समान शिकार में लगा रहता है ।

वकवरी—(सं. पुं.) बलराम, श्रीकृष्ण ।

वकव्रती—(सं. वि.) वकवृत्ति ।

वकस—(हि. पुं.) कपड़े, गहने आदि रखने का संदूक, छोटा डब्बा ।

वकसना—(हि. क्रि. स.) देना ।

वकसा—(हि. पुं.) जल में होनेवाली एक प्रकार की घास ।

वकसाना, वकसानाना—(हि. क्रि. स.) क्षमा कराना ।

वकसी—(हि. पुं.) क्षमा करनेवाला ।

वकसीला—(हि. वि.) जिसके खाने से जी मचलने लगे और मुख का स्वाद विगड़ जाय ।

वकसीस—(हि. स्त्री.) पारितोषिक ।

वकसुआ—(हि. पुं.) लोहे या पीतल का छल्ला ।

वकाउर—(हि. स्त्री.) देखें 'वकावली' ।

वकाना—(हि. क्रि. स.) वकवक करने के लिये प्रेरित करना, वकवक कराना ।

वकायन—(हि. पुं.) नीम की जाति का एक वृक्ष जिसकी लकड़ी सफेद और हलकी होती है ।

वकाया—(अ. वि.) अवशिष्ट, शेष, बचा हुआ ।

वकारि—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण, भीमसेन ।

वकारी—(हि. स्त्री.) मुख से निकलनेवाला शब्द ।

वकावली—(हि.स्त्री.) देखें 'गुल-वकावली' ।

वकासुर—(सं.पुं.) एक दैत्य जिसको श्री-कृष्ण ने मारा था ।

वकी—(सं. स्त्री.) वकासुर की बहन पूतना का एक नाम ।

वकुचा—(हि. पुं.) छोटी गठरी, वकचा ।

वकुचना—(हि. क्रि. अ.) संकुचित होना, सिकुड़ना ।

वकुचाना—(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु को गठरी बांधकर कंधे पर लटकाना या पीठ पर बांधना ।

वकुची—(हि. स्त्री.) एक पौधा जो औषध के काम में आता है, छोटी गठरी ।

वकुचौहां—(हि. वि.) वकुचे जैसा ।

वकुर—(सं. पुं.) सूर्य, विजली; (वि.) शयंकर, डरावना ।

वकुरना—(हि. क्रि. स.) देखें 'वकरना'

वकुराना—(हि. क्रि. स.) स्वीकार कराना ।

वकुल—(सं. मं.) मौलसिरी ।

वकुला—(हि. पुं.) देखें 'वगुला' ।

वकूल—(स. पुं.) वकुल, मौलसिरी ।

वकेन, वकेना—(हि. स्त्री.) वह गाय या भैंस जिसको वच्चा दिये प्रायः साल भर हो गया हो, जो वरदाई न हो और दूध देती हो ।

वकेल—(हि.स्त्री.) पौधा विशेष जिसकी जड़ को कूटकर रस्सी बनाई जाती है ।

वकैयां—(हि. पुं.) वच्चों का घुटनों के बल चलने का ढंग ।

वकोट—(हि. स्त्री.) वकोटने या नोचने की क्रिया या भाव, किसी पदार्थ की उतनी मात्रा जो वकोटने से चंगुल में पकड़ी जा सके ।

वकोटना—(हि. क्रि. स.) पंजा मारना, नख से नोचना ।

वकौड़ा—(हि. पुं.) परास की कूटी हुई जड़ जिसकी रस्सी बनाई जाती है ।

वकौरी—(हि. स्त्री.) गुलवकावली ।

वक्कल—(हि.पुं.) वल्कल, छिलका, छाल ।

वक्का—(हि.पुं.) धान की उपज में लगनेवाला एक प्रकार का कीड़ा ।

वक्की—(हि. वि.) वकवाद करनेवाला, बहुत बोलनेवाला; (पुं.) एक प्रकार का भदौहां धान ।

वक्कुर—(हि. पुं.) वचन, बोली ।

वक्खर—(हि. पुं.) गाय-बैल बांधने का बाड़ा, एक तृण, बाखर ।

वक्स—(हि. पुं.) वकस, पेटी, संदूक ।

वखत—(हि. पुं.) वक्त, समय ।

वख (क) तर—(हि. पुं.) कवच ।

वखर—(हि. पुं.) देखें 'वक्खर' ।

वखरा—(हि. पुं.) भाग, हिस्सा, वांट ।

वखरी—(हि. स्त्री.) एक कुटुम्ब के रहने योग्य ईंट, मिट्टी आदि का बना हुआ गाँव का घर ।

वखरैत—(हि. पुं.) हिस्सेदार, साझीदार ।

वखसीस—(हि. स्त्री.) देखें 'वकसीस' ।

वखान—(हि. पुं.) वर्णन, कथन, गुण-कीर्तन, प्रशंसा, बड़ाई ।

वखानना—(हि. क्रि. स.) वर्णन करना, कहना, बुरा-भला कहना, गाली-गलौज देना, प्रशंसा करना ।

वखार—(हि. पुं.) दीवार आदि से घेरकर बनाया हुआ अन्न रखने का स्थान ।

वखारी—(हि. स्त्री.) छोटा वखार ।

वखिया—(फा. पुं.) एक प्रकार की महीन पुष्ट सिलाई ।

वखियाना—(हि.क्रि.स.) किसी वस्त्र पर वखिया की सिलाई करना, वखिया करना ।

वखीर—(हि. स्त्री.) मीठे रस में पकाया हुआ चावल, एक प्रकार की खीर ।

वखुद—(फा.अव्य.) अपने से, अपने आप ।

वखुबी—(फा. अव्य.) अच्छी तरह, मली भाँति ।

वखेड़ा—(हिं. पुं.) आडम्बर, व्यर्थ विस्तार, कठिनता, विवाद, झगड़ा, झंझट, उलझन ।

वखेड़िया—(हि. वि.) वखेड़ा करने वाला, झगड़ालू ।

वखेरना—(हि. क्रि. स.) पदार्थों को इधर-उधर फैलाना या फेंकना ।

वखेरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कँटीला वृक्ष ।

वखोरना—(हि. क्रि.स.) टोकना, छेड़ना ।

वख्खा—(फा.वि.) देनेवाला, बख्शनेवाला ।

वख्खाना—(हि.क्रि.स.) देना, दान करना, क्षमा करना ।

वख्खिश—(फा. स्त्री.) दान, इनाम, क्षमा ।

वख्खी—(फा. पुं.) तनख्वाह बाँटनेवाला सरकारी कर्मचारी ।

वख्खीन—(हि. स्त्री.) देखें 'वख्खिश' ।

वग—(हि. पुं.) वगला ।

वगई—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास, एक प्रकार की मक्खी जो कुत्तों पर बहुत बैठती है, कुकुरमाछी ।

वगछुट—(हि. अव्य.) बड़े वेग से, सर-पट चाल से ।

वगदना—(हि. क्रि. अ.) विगड़ना, नष्ट होना, वहकना, ठीक मार्ग भूल जाना, गिरना ।

वगदर—(हि. पुं.) मच्छड़ ।

वगदवाना—(हि. क्रि. स.) विगाड़ना, नष्ट कराना, भुलवाना, प्रतिज्ञा भंग कराना, गिराना ।

वगदाना—(हि. क्रि. स.) विगाड़ना, मड़-काना, भुलाना ।

वगना—(हि.क्रि.अ.) धूमना-फिरना ।

वगनी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास, वगई ।

वगमेल—(हि.पुं.) पाँत या पंक्ति में चलना, समानता ।

वगर—(हि. पुं.) प्रासाद, बड़ा घर, द्वार के सामने का खुला स्थान, आँगन, गाय बाँधने का स्थान या घर, कोठरी; (स्त्री.) वगल ।

वगरना—(हि. क्रि. अ.) विखरना, फैलना, छितराना ।

वगराना—(हि. क्रि. अ.,स.) छितराना, फैलाना, बिखरना ।
 वगरी—(हि.पुं.) एक प्रकार का भदौहाँ धान; (स्त्री.) वखरी ।
 वगल—(फा. स्त्री.) काँख, पहलू, पार्श्व, समीपवर्ती स्थल; (मुहा.) -गरम करना—स्त्री के साथ सोना ।
 वगल-गंध—(हि. स्त्री.) काँख का फोड़ा, काँखोरी, एक प्रकार का रोग जिसमें काँख से बड़ी दुर्गन्ध निकलती है ।
 वगलबंदी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की मिरजई जिसमें वगल के नीचे बंद लगे रहते हैं ।
 वगला—(हि. पुं.) सफेद रंग का एक प्रसिद्ध पक्षी, एक झाड़ी जैसा पौधा ।
 वगलामुखी—(हि. स्त्री.) एक तान्त्रिकदेवी ।
 वगलियाना—(हि. क्रि. अ., स.) अलग करना, वगल में करना, वगल से होकर जाना, राह से हटकर निकलना ।
 वगली—(हि. वि.) वगल का, वगल से संबंध रखनेवाला; (स्त्री.) कपड़े का वह टुकड़ा जो अंगे, कुरते आदि की वगल में लगाया जाता है, वह धैली जिसमें दर्जी सूई-तागा रखते हैं; (मुहा.) -टाँग—(स्त्री.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति; -बाँह—(स्त्री.) एक प्रकार का व्यायाम; -लँगोट—(पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
 वगलौहा—(हि. वि.) वगल की ओर झुका हुआ, तिरछा ।
 वगसना—(हि. क्रि. स.) देखें 'वकसना' ।
 वगा—(हि. पुं.) जामा, वागा, वगला ।
 वगाना—(हि. क्रि. अ., स.) टहलाना, घुमाना-फिराना, जल्दी-जल्दी जाना, भागना ।
 वगार—(हि. पुं.) गाय बाँधने का स्थान ।
 वगारना—(हि. क्रि. स.) पसारना, फैलाना ।
 वगावत—(अ. स्त्री.) राज-विद्रोह, विप्लव, वदअमली ।
 वगिया—(हि. स्त्री.) छोटा वगीचा, या उपवन, वाटिका ।
 वगीचा—(हि. पुं.) उपवन, वाटिका ।
 वगुला—(हि. पुं.) वक्रपक्षी ।
 वगुला-भगत—(हि. पुं.) पाखण्डी मनुष्य ।
 वगूला—(हि. पुं.) वह वायु जो गरमी के दिनों में कभी-कभी एक स्थान पर र भँवर-सी घूमती हुई दिखाई पड़ती है, वातचक्र, बवंडर ।
 वगोदना—(हि. क्रि. स.) विचलित करना ।
 वगरी—(हि. स्त्री.) भूरे रंग की एक छोटी चिड़िया ।
 वगीचा—(हि. पुं.) देखें 'वगीचा' ।

वगैर—(फा. अव्य.) बिना, सिवा ।
 वग्गी, वग्गी—(हि. स्त्री.) पालकी के आकार की चौपहिया घोड़ा-नाड़ी ।
 वगंवर—(हि. पुं.) वाघ की खाल जिस पर साधु बैठकर ध्यान लगाते हैं, वाघ की खाल की तरह बुना हुआ कंबल ।
 वगनहाँ—(हि. पुं.) एक प्रकार का शस्त्र जिसमें वाघ के नख के समान काँटे रहते हैं, (यह अँगुलियों में पहना जाता है), वच्चों को पहनाने का एक प्रकार का गहना जिसमें वाघ के नख सीने या चाँदी में मढ़े होते हैं ।
 वघार—(हि. पुं.) झौंक, तड़का, वघारने की महक, वघारने का मसाला ।
 वघारना—(हि. क्रि. स.) तड़का देना, झौंकना, अपनी योग्यता से अधिक पांडित्य दिखाना, कुसमय अधिक बातें करना ।
 वघूरा—(हि. पुं.) वगला ।
 वघरा—(हि. पुं.) लकड़वग्घा ।
 वघेली—(हि. स्त्री.) पात्रों को खरादने-वालों का खूटा ।
 वघ—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पौधा जिसकी पत्तियाँ और जड़ औषधों में प्रयुक्त होती हैं; (पुं.) वचन, वाक्य ।
 वचका—(हि. पुं.) एक प्रकार का पकवाना ।
 वचकाना—(हि. वि.) वच्चों के योग्य, वच्चों की नाप का, थोड़ी अवस्था का ।
 वचत—(हि. स्त्री.) वह अंश जो व्यय होने के बाद बच रहे, शेष, लाभ, बचाव ।
 वचन—(हि. पुं.) देखें 'वचन' ।
 वचना—(हि. क्रि. अ.) रक्षा या बचाव होना, दूर रहना, छूट जाना ।
 वचपन—(हि. पुं.) बाल्यावस्था, लड़कपन ।
 वचवथा—(हि. पुं.) वचानेवाला, रक्षा करनेवाला ।
 वचा—(हि. पुं.) देखें 'वच्चा', लड़का ।
 वचाना—(हि. क्रि. स.) कष्ट या आपत्ति से बचाव या रक्षा करना, पीछे करना, हटाना, व्यय न होने देना, किसी बुरी बात से अलग रखना, छिपाना, चुराना, प्रभाव न पड़ने देना, ऐसे रोग से चंगा करना जिसमें मृत्यु का भय हो ।
 वचाव—(हि. पुं.) वचने का भाव, रक्षा ।
 वचिया—(हि. स्त्री.) कशीदे में बनाई हुई छोटी-छोटी बूटियाँ ।
 वचून—(हि. पुं.) मालू का वच्चा ।
 वच्चा—(हि. पुं.) नवजात शिशु, बालक, छोटा लड़का; वच्चों का खेल—(पुं.)

बहुत आसान काम ।
 वच्ची—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की वारह-मासी लता ।
 वच्ची—(हि. स्त्री.) छोटी कन्या, बालिका ।
 वच्छ—(हि. पुं.) वच्चा, बेटा, वछड़ा ।
 वच्छनाग—(हि. पुं.) देखें 'वछनाग' ।
 वच्छल—(हि. वि.) देख 'वत्सल', माता-पिता के समान लाड़-प्यार करनेवाला ।
 वच्छस—(हि. पुं.) छाती, सीना ।
 वच्छा—(हि. पुं.) गाय का वछवा, किसी पशु का वच्चा ।
 वछड़ा, वछा—(हि. पुं.) गाय का वच्चा ।
 वछनाग—(हि. पुं.) हिरन के सींग के आकार का एक स्थावर विष जो एक पहाड़ी पौधे की जड़ है ।
 वछरा—(हि. पुं.) देखें 'वछड़ा' ।
 वछरू—(हि. पुं.) देखें 'वछड़ा', वछवा ।
 वछल—(हि. वि.) देखें 'वत्सल' ।
 वछवा, वछड़ा—(हि. पुं.) गाय का वच्चा ।
 वछेरू—(हि. पुं.) देखें 'वछड़ा' ।
 वछौटा—(हि. पुं.) वह चन्दा जो हिस्से के अनुसार लगाया जाय ।
 वजंत्री—(हि. पुं.) वाजा वजानेवाला, वजनियाँ ।
 वजकंद—(हि. पुं.) एक प्रकार की जंगली लता ।
 वजकना—(हि. क्रि. अ.) किसी पदार्थ का सड़कर बूलबुले छोड़ना, वजवजाना ।
 वजका—(हि. पुं.) वेसन की पकौड़ी जो पानी में भिगोकर दही में डाली जाती है ।
 वजट—(अं. पुं.) आय-व्यय का तस्मीना (बनाना) ।
 वजड़ना—(हि. क्रि. अ.) पहुँचना, टकराना ।
 वजड़ा—(हि. पुं.) देखें 'वजरा' ।
 वजनक—(हि. पुं.) पिस्ते का फूल जिससे रेशम रंगा जाता है ।
 वजना—(हि. क्रि. अ.) करतल आदि के आघात या हवा के वेग से वाज में शब्द उत्पन्न होना, प्रसिद्ध होना, प्रहार या आघात पड़ना, हठ करना, शस्त्रों का चलना; (पुं.) वजानेवाला, वाजा, रुपया; (वि.) वजानेवाला ।
 वजनियाँ, वजनिहाँ—(हि. पुं.) वाजा वजाने वाला ।
 वजनी—(हि. वि.) वजनेवाला, जो वजता हो ।
 वजवजाना—(हि. क्रि. अ.) वजकना ।
 वजमारा—(हि. वि.) वज से मारा हुआ, जिस पर वज पड़ा हो ।
 वजरंग—(हि. वि.) वज्र के समान पृष्ठ

शरीरवाला; (पुं.) हनुमान; -बली-
(पुं.) महावीर, हनुमान।
बजरवट्ट- (हि. पुं.) एक वृक्ष के फल का
दाना जिसकी माला बनाकर बच्चों
को पहनाई जाती है।
बजरवोंग- (हि. पुं.) वाँस का मोटा भारी
डंडा, एक प्रकार का अगहनिया घान।
बजरहड्डी- (हि. स्त्री.) घोड़े के पैर में
होनेवाला एक प्रकार का फोड़ा।
बजरा- (हि. पुं.) एक प्रकार की पटी
गई बड़ी नाव, देखें 'बाजरा'।
बहुरागि- (हि. स्त्री.) देखें 'विजली'।
बजरी- (हि. स्त्री.) कंकड़ के छोटे-छोटे
टुकड़े जो गच के ऊपर पीटे जाते हैं,
गड़ की भीत के ऊपर बना हुआ कंगूरा
जिसके छिद्रों में से गोली बलाई जाती
है, ओला।
बजवाई- (हि. स्त्री.) बाजा बजाने का
पारिथमिक या क्रिया।
बजवाना- (हि. क्रि. स.) बजाने के लिये
किसी को प्रेरित करना, बजाने में किसी
को प्रवृत्त करना।
बजवाँया- (हि. पुं.) बाजा बजानेवाला।
बजागि- (हि. स्त्री.) बज्र की आग, विजली।
बजाना- (हि. क्रि. स.) बाजे आदि पर
आघात करके अथवा हवा के वेग
से उसमें शब्द उत्पन्न करना, आघात
पहुँचाना, किसी वस्तु से मारना, (काम)
पूरा करना, आवाज निकालकर जाँचना।
बजार- (हि. पुं.) हाट, बाजार।
बजारी, बजार- (हि. वि.) बाजारी,
साधारण, सामान्य।
बजूआ- (हि. पुं.) देखें 'बाजू'।
बजूआ- (हि. पुं.) बाजू।
बज्जर- (हि. वि.) कड़ा, पुष्ट; (पुं.)
देखें 'बज्र'।
बज्जात- (हि. वि.) दुष्ट, पाजी।
बज्जाती- (हि. स्त्री.) दुष्टता, पाजीपन।
बज्र- (हि. पुं.) देखें 'बज्र'।
बज्रवट- (हि. स्त्री.) बाँझ स्त्री, कोई मादा
पशु, पौधों का डंठल।
बझना- (हि. क्रि. अ.) बंधन में पड़ना,
फँसना, उलझना, हठ करना।
बझान- (हि. स्त्री.) बझने की क्रिया या
भाव, बझाव।
बझाना- (हि. क्रि. स.) बंधन में डालना,
उलझाना, फँसाना।
बझाव- (हि. पुं.) फँसाने की क्रिया
या भाव, अटकाव, उलझन।
बझावट- (हि. स्त्री.) बझने की क्रिया

या भाव, उलझन।
बझावना- (हि. क्रि. स.) देखें 'बझाना'।
बट- (हि. पुं.) देखें 'बट', 'बड़ा' नामक
पकवान, गोल वस्तु, मार्ग, बट्टा, लोढ़िया,
वाट, बटखरा; (स्त्री.) रस्सी की ऐंठन।
बटई- (हि. स्त्री.) बटेर नाम की चिड़िया।
बटखर, बटखरा- (हि. पुं.) तौलने का
मान, वाट।
बटन- (हि. स्त्री.) रस्सी आदि बटने या
ऐंठने की क्रिया या भाव, एक प्रकार का
बादले का तार; (अं. पुं.) कमीज, कोट
आदि में लगाई जानेवाली सीप, सींग
आदि की घुंडी, वुताम, विजली आदि
का स्विच या घुंडी।
बटना- (हि. क्रि. अ., स.) कई तन्तुओं,
तागों या तारों को एक साथ मिलाकर
इस प्रकार ऐंठना कि वे सब मिलकर
एक हो जायें, सिल पर रगड़कर किसी
वस्तु का पिसा जाना, पिसना।
बटपरा- (हि. पुं.) देखें 'बटमार'।
बटपार- (हि. पुं.) देखें 'बटमार'।
बटपारी- (हि. स्त्री.) डकैती, ठगी।
बटम- (हि. पुं.) दीवार की सीध नापने
का यन्त्र, गोनिया।
बटमार- (हि. पुं.) डाकू, लुटेरा।
बटला- (हि. पुं.) देग, देगचा, बड़ी बटलोई।
बटली, बटलोई- (हि. स्त्री.) चौड़े मुँह
का गोल पात्र, देगची।
बटवाना- (हि. क्रि. स.) देखें 'बटवाना',
'बटना' का प्रेरणार्थक रूप।
बटवाँयक, बटवार- (हि. पुं.) चौकीदार।
बटा- (हि. पुं.) गोल वस्तु, गोला, पथिक,
बटोही, राही, गेंद, डेला, रोड़ा, गणित
में अपूर्ण संख्या या भग्नांश में का हर,
जैसे— $\frac{3}{4}$ —तीन बटा चार।
बटाई- (हि. स्त्री.) बटने या ऐंठन डालने
का काम, बटने का शल्क, बटाई।
बटाऊ- (हि. पुं.) राह चलनेवाला, बटोही,
पथिक; (मुहा.)—होना—चला जाना।
बटाऊ- (हि. वि.) बड़ा, ऊँचा।
बटाना- (हि. क्रि. अ.) रुक जाना, बंद
हो जाना।
बटाली- (हि. स्त्री.) बड़इयों का एक
उपकरण, खानी।
बटिया- (हि. स्त्री.) कोई गोल और चिकना
टुकड़ा, छोटागोला, पत्थर, लोढ़िया, छोटावट्टा
बटो- (हि. स्त्री.) बड़ी नाम का पकवान।
बटआ- (हि. पुं.) देखें 'बटुवा'; (वि.)
सिल-बट्टे से पिसा हुआ।
बटुक- (सं. पुं.) लड़का, बच्चा।

बटुरना- (हि. क्रि. अ.) सिमटना, फला
न रहना, इकट्ठा होना।
बटुला- (हि. पुं.) बड़ी बटलोई।
बटुवा- (हि. पुं.) कपड़े या चमड़े की थैली
जिसमें कई खाने रहते हैं, बड़ी बटलोई।
बटेर- (हि. स्त्री.) तीतर या लवा की
जाति की एक छोटी चिड़िया जो भूरे
रंग की होती है; -बाज- (पुं.) बटेर
पालने या लड़ानेवाला; -बाजो-
(स्त्री.) बटेर पालने या लड़ाने का काम।
बटेरा- (हि. पुं.) कटोरा, गहरी थाली।
बटोई- (हि. पुं.) देखें 'बटोही'।
बटोर- (हि. पुं.) बहुत से मनुष्यों का
इकट्ठा होना, जमघट, जमावड़ा, कूड़ा
करकट का ढेर, दानों का ढेर जो खेत-
में बटोरकर इकट्ठा किया गया हो।
बटोरन- (हि. स्त्री.) बटोरकर इकट्ठा
किया हुआ ढेर, कूड़ा-करकट का ढेर।
बटोरना- (हि. क्रि. स.) बिखरी हुई
वस्तुओं को इकट्ठा करके ढेर लगाना,
समेटना, फैला न रहने देना।
बटोहिया- (हि. पुं.) देखें 'बटोही'।
बटोही- (हि. पुं.) पथिक, राही।
बट्ट- (हि. पुं.) गेंद, गोला, वाँट, बटखरा,
बल, मुरी।
बट्टा- (हि. पुं.) दलाली, हानि, पूरे मूल्य
में वह कमी जो किसी मुद्रा आदि के
तुड़ान में देना पड़े, रत्न आदि रखने
का डिव्वा, एक प्रकार की उवाली हुई
सुपारी, पत्थर आदि का गोल टुकड़ा,
कूटने या पीसने का पत्थर, लोढ़ा, वह
कमी जो क्रय-विक्रय में किसी वस्तु के
मूल्य में की जाती है; (मुहा.)—लगना-
कलंक लगना; -खाता- (पुं.) वह वही
जिसमें डूबी हुई रकम का लेखा रहता
है; -हाल- (वि.) समतल और चिकना।
बट्टी- (हि. स्त्री.) छोटा बट्टा, पत्थर
आदि का गोल छोटा टुकड़ा, कूटने-
पीसने का लोढ़ा, साबुन की टिकिया।
बट्टू- (हि. पुं.) घारीदार चारखाना,
बजरवट्ट, लोबिया नामक तरकारी।
बट्टेबाज- (हि. पुं., वि.) जादूगर, घूर्त।
बडगा- (हि. पुं.) देखें 'बडैर'।
बड़- (हि. स्त्री.) प्रलाप, बकवाद; (पुं.)
बरगद का वृक्ष; (वि.) बड़ा; (अव्य.)
बढ़कर।
बड़कुइयाँ- (हि. स्त्री.) कच्चा कुआँ।
बड़गजर- (हि. पुं.) राजपूतानावासी एक
क्षत्रिय जाति।
बड़गुल्ला- (हि. पुं.) एक प्रकार का बगुला।

बड़दुमा—(हि.पुं.) लंबी पोंछवाला हाथी ।
 बड़प्पन—(हि.पुं.) महत्त्व, गौरव, श्रेष्ठता, बड़ाई ।
 बड़बट्टा—(हि.पुं.) बरगद का फल, गोदा ।
 बड़बड़—(हि.स्त्री.) व्यर्थ का बोलना, वकवाद ।
 बड़बड़ाना—(हि. क्रि. अ.) प्रलाप करना, व्यर्थ वकवाद करना, मुँह में ही कुछ बोलना ।
 बड़बड़िया—(हि.वि.) बड़बड़ करनेवाला, वकवादी ।
 बड़बेरी—(हि. स्त्री.) देखें 'झरबेरी' ।
 बड़बोल, बड़बोला—(हि. वि.) लंबी-चौड़ी बातें करनेवाला, सीटनेवाला ।
 बड़भाग, बड़भागी—(हि. वि.) भाग्यवान् ।
 बड़रा—(हि. वि.) विशाल, बड़ा ।
 बड़राना—(हि.क्रि.अ.) बराना, बड़बड़ करना ।
 बड़वा—(सं.स्त्री.) घोड़ी, अश्विनी नक्षत्र, दासी, समुद्र के भीतर की अग्नि ।
 बड़वाग्नि—(सं.स्त्री.), बड़वानल—(सं.पुं.) समुद्र के भीतर की अग्नि, या ताप ।
 बड़वासुख—(सं.पुं.) महादेवजी का एक नाम ।
 बड़वार—(हि. वि.) बड़ा, विशाल ।
 बड़वारी—(हि. स्त्री.) महत्त्व, बड़प्पन, प्रशंसा ।
 बड़वाल—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की पहाड़ी भेड़ ।
 बड़वालुत—(सं. पुं.) अश्विनी कुमार ।
 बड़हंस—(हि.पुं.) एक संकर राग का नाम; -सारंग—(पुं.) संपूर्ण जाति का एक राग ।
 बड़हंसिका—(सं.स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 बड़हन—(हि. पुं.) एक प्रकार का घान ।
 बड़हर(ल)—(हि.पुं.) एक बड़ा वृक्ष जिसके फल शरीर के आकार के वेडाल और खाने में मीठे होते हैं ।
 बड़हार—(हि. पुं.) बरातियों की वह ज्योनार जो विवाह के बाद दी जाती है ।
 बड़ा—(हि. वि.) अधिक, विस्तृत, लंबा-चौड़ा, उम्र, में अधिक (गुण, प्रभाव आदि में) उत्तम, किसी बात में बढ़कर, श्रेष्ठ, ऊँचा, अधिक परिमाण का; (पुं) मसाला मिली हुई उर्द की पीठी की टिकिया को घी या तेल में तलकर बनाया हुआ एक पकवान ।
 बड़ा धर—(हि.पुं.) बन्दीगृह ।
 बड़ाई—(हि. स्त्री.) परिमाण या विस्तार की अधिकता, महिमा, प्रशंसा, (पद, मान, मर्यादा, वय, विद्या आदि की) वृद्धि, बड़प्पन, श्रेष्ठता; (मुहा.) -देना-आदर-सत्कार करना ।
 बड़ा दिन—(हि.पुं.) २५ दिसंबर का दिन

जो ईसा मसीह का जन्मदिवस माना जाता है, (ईसाई लोग इस दिन त्योहार मनाते हैं) ।
 बड़ा पीलू—(हि.पुं.) एक प्रकार का रेशम का कीड़ा ।
 बड़ाबोल—(हि. पुं.) अहंकार के शब्द ।
 बड़ासवर—(हि. पुं.) कसेरों का पात्रों में जोड़ लगाने का उपकरण ।
 बड़ी—(हि.स्त्री.) (उड़द, मूंग आदि की) पीठी की बनाई हुई छोटी-छोटी टिकिया, मांस की बोटी; (वि.) 'बड़ा' का स्त्रीलिंग रूप; -कटाई—(स्त्री.) बड़ी जाति की भटकठैया; -गोटी—(स्त्री.) चौपायों का एक रोग; -माता—(स्त्री.) शीतला रोग, चेचक; -शैल—(स्त्री.) मूरे रंग की एक चिड़िया; -मौसली—(स्त्री.) लोहे का ठप्पा जिससे थालियों में नकाशी की जाती है ।
 बड़ेर—(हि. पुं.) चक्रवात, बवंडर ।
 बड़ैरा—(हि. पुं.) छाजन में लंबे बल की पुष्ट लकड़ी जिस पर छट टिका रहता है, कुएँ पर खंभों पर रखी हुई वह लड़की जिस पर धिरनी लगी रहती है ।
 बड़ौखा—(हि.पुं.) एक प्रकार का नरम गन्ना ।
 बड़ौना—(हि. पुं.) प्रशंसा ।
 बड़—(हि. स्त्री.) अधिकता ।
 बड़ई—(हि.पुं.) काठ को गढ़कर अनेक प्रकार की सामग्रियाँ बनानेवाला कारीगर ।
 बड़ती—(हि.स्त्री.) (माना, मान या संख्या में) वृद्धि, वन-धान्य की वृद्धि, सम्पत्ति आदि का बढ़ना ।
 बड़दार—(हि.पुं.) पत्थर काटने की टांकी ।
 बड़न—(हि. स्त्री.) वृद्धि, बढ़ती ।
 बड़ना—(हि.क्रि.अ.) वृद्धि को 'प्राप्त होना, उन्नति करना, अग्रसर होना, भाव में वृद्धि होना, लाभ होना, दुकान आदि का बंद होना, दीपक का बुझना, परिमाण या संख्या में अधिक होना, किसी से गुण, बल आदि में अधिक होना, दूसरे से आगे निकल जाना; (मुहा.) बड़कर चलना—धमंड करना ।
 बड़नी—(हि. स्त्री.) झाड़ू, बूहारी, अन्न या रुपया जो खेतों करने के लिये अग्रिम दिया जाता है ।
 बड़ाना—(हि.क्रि.अ.,सं.) फैलाना, लम्बा करना, दुकान आदि को बन्द करना, भाव अधिक कर देना, समाप्त होना, (पद, अधिकार, सुख-सम्पत्ति आदि में) अधिकता होना, आगे ले जाना, उन्नत करना,

(बल, प्रभाव, गुण आदि को) अधिक करना, अधिक तीव्र करना, दीपक बुझाना, चुकना, समाप्त होना ।
 बड़ाली—(हि.स्त्री.) कटारी, छोटी कटार ।
 बड़ाब—(हि. पुं.) बढ़ने की क्रिया या भाव, विस्तार, वृद्धि, अधिकता ।
 बड़ावना—(हि. क्रि. स.) देखें 'बड़ाना' ।
 बड़ावा—(हि. पुं.) उत्तेजना, प्रोत्साहन, साहस देनेवाली बात, मन बढ़ाने की बात, कठिन काम में प्रवृत्त करने का हाँसला ।
 बड़िया—(हि. वि.) उत्तम, अच्छा; (पुं.) एक प्रकार का कोल्हू, (अन्न, गन्ने आदि की) उपज का एक रोग ।
 बड़ेल—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की कोमल रोएँ की भेड़ ।
 बड़ैला—(हि. पुं.) जंगली सूअर ।
 बड़ैया—(हि.पुं.) बढ़ने या बढ़ानेवाला, उन्नति करनेवाला ।
 बड़ोतरी—(हि. स्त्री) उन्नति, बढ़ती, उत्तरोत्तर वृद्धि ।
 बणिक्—(सं. पुं.) वाणिज्य करनेवाला, बनिया, विक्रेता, बेचनेवाला ।
 बणिक्बन्धु—(सं.पुं.) नील का पौधा, बनियों का बन्धु ।
 बणिग्भाव—(सं.पुं.) वाणिज्य, दुकानदारी ।
 बणिज्—(सं.पुं.) देखें 'बणिक्', बनिया ।
 बणिज्य, बणिवृत्ति—(सं.पुं. स्त्री.) देखें 'वाणिज्य' ।
 बत—(हि.स्त्री.) बात, (योगिक शब्दों में) इसका प्रयोग होता है, यथा-बतकही ।
 बतक—(हि. स्त्री.) देखें 'बतख' ।
 बतकहाव—(हि. पुं.) बातचीत, वाद-विवाद ।
 बतकही—(हि.स्त्री.) वार्तालाप, बात-चीत ।
 बतख—(हि. स्त्री.) हंस की जाति की पानी में तैरनेवाली एक सफेद चिड़िया ।
 बतचल—(हि. वि.) वकवादी, वक्की ।
 बतबड़ाव—(हि. पुं.) व्यर्थ बात बड़ाना, झगड़ा, विवाद ।
 बतर—(हि. वि.) बुरा ।
 बतरस—(हि.पुं.) वार्तालाप का आनन्द ।
 बतरान—(हि. स्त्री.) बातचीत ।
 बतराना—(हि.क्रि.अ.) बातचीत करना ।
 बतरौहा—(हि. वि.) बातचीत करने को उत्सुक ।
 बतलाना, बताना—(हि.क्रि. स.) निर्देश करना, दिखाना, जताना, समझाना-बुझाना, नाचन-गाने में भाव बताना, किसी बात को प्रकट करना, दण्ड

देकर ठीक मार्ग पर लाना, मार-पीटकर ठीक करना, मरम्मत करना ।

घताना—(हि. पुं.) हाथ का कड़ा, वह पुराना कपड़ा या चीर जिस पर पगड़ी बाँधी जाती है ।

घताशा—(हि. पुं.) देखें 'वतासा' ।

वतास—(हि. स्त्री.) गृध्या, वात रोग, वायु, हवा ।

वतासफेनी—(हि. स्त्री.) टिकिया के आकार की एक मिठाई ।

घतासा—(हि. पुं.) चीनी की चाशनी टपकाकर बनाई हुई एक प्रकार की मिठाई, बुलबुला, एक प्रकारकी अग्नि क्रीड़ा ।

घतिया—(हि. पुं.) थोड़े दिनों का लगा हुआ छोटा फल ।

वतियाना—(हि. क्रि. अ., स.) वातचीत करना ।

वतियार—(हि. स्त्री.) वातचीत ।

वतीसा—(हि. पुं.) वत्तीस दवाओं और मेवों के योग से बना हुआ लड्डू या हलवा जो प्रसूता को पुष्टि के लिए दिया जाता है ।

वतीसी—(हि. स्त्री.) वत्तीसों दाँत, वत्तीस चीजों का समूह; (मुहा.)

—खिलना—खुलकर हँसना ।

वत्तू—(हि. पुं.) देखें 'कलावत्तू' ।

वतौर—(फा. अव्य.) द्वारा, मारफत ।

वतौरी—(हि. स्त्री.) सृजन ।

वत्तक—(हि. स्त्री.) देखें 'वत्तख' ।

वत्तिस—(हि. वि.) देखें 'वत्तीस' ।

वत्ती—(हि. स्त्री.) (सूत, रूई, कपड़े आदि की) पतली पुनी या मोटा फीता जो दीपक जलाने के उपयोग में आता है, प्रकाश, दिया, पगड़ी का एंठा हुआ कपड़ा, मोमवत्ती, वत्ती के आकार की कोई वस्तु, फूस का मुट्ठा जो छाजन में लगाया जाता है, घाव से पीव निकालकर उसमें भरने की कपड़े की लंबी पलीता ।

वत्तीस—(हि. वि.) तीस और दो की संख्या का; (पुं.) तीस और दो की संख्या, ३२ ।

वत्तीसा—(हि. पुं.) वत्तीस औषधियाँ आदि मिलाकर बना हुआ पुष्टई देने वाला एक प्रकार का लड्डू, वतीसा ।

वत्तीसी—(हि. स्त्री.) वत्तीस का समूह, मनुष्य के नीचे-ऊपरके दाँतों की पंक्तियाँ जिनकी कुल संख्या वत्तीस होती है ।

वतान—(हि. पुं.) गाय-बैल के रहने का स्थान ।

वयुआ—(हि. पुं.) एक छोटा पौधा जिसका साग बनाकर खाया जाता है ।

वद—(फा. वि.) बुरा, खराब, दुष्ट अशुभ, अमंगलकारी; —इंतजाम—(वि.) प्रबंध में अपटुं; —इंतजामी—(स्त्री.) कुप्रबंध, कुव्यवस्था; —किस्मत—(वि.) अभाग; —चलन—(वि.) दुश्चरित्र; —तमीज—(वि.) अशिष्ट, गुस्ताख; —तमीजी—(स्त्री.) अशिष्टता, गुस्ताखी; —दिमाग—(वि.) घमंडी; —दिमागी—(स्त्री.) घमंड; —नाम—(वि.) जिसकी लोग निंदा करें; —नामी—(स्त्री.) कलंक; —नीयत—(वि.) वेईमान; —नीयती—वेईमानी; —बू—(स्त्री.) दुर्गंध; —दार—(वि.) दुर्गंधयुक्त; —रंग—(वि.) बुरे रंग का; —सूरत—(वि.) कुरूप; —सूरती—(स्त्री.) कुरूपता; —हजमी—(स्त्री.) अजीर्ण, अपच ।

वदन—(हि. पुं.) देखें 'वदन'; (फा. पुं.) शरीर, देह ।

वदना—(हि. क्रि. स.) वर्णन करना, कहना, स्थिर करना, ठहराना, स्वीकार करना, मान लेना, होड़ लगाना, गिनती में लाना, किसी को कुछ समझना, या मानना; वदकर—(अव्य.) हठ पूर्वक, जान-बूझकर ।

वदर—(सं. पुं.) कपास, विनोला, बेर का वृक्ष, या फल, आठ माशे की तौल ।

वदरबीज—(सं. पुं.) बेर की गुठली ।

वदरा—(सं. स्त्री.) कपास, वाराहीकन्द; (हि. पुं.) बादल, मेघ ।

वदराई—(हि. स्त्री.) वदली ।

वदरामलक—(सं. पुं.) जल-आमंला ।

वदरास्थि—(सं. पुं.) बेर की गुठली ।

वदरि—(सं. स्त्री.) बेर का पेड़ या फल ।

वदरिकाश्रम—(सं. पुं.) श्रीनगर (गढ़वाल) के पास अलकनन्दा नदी के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित एक तीर्थ, (यहाँ पर नर-नारायण तथा व्यास का आश्रम है ।)

वदरिया—(हि. स्त्री.) देखें 'वदली' ।

वदरी—(हि. स्त्री.) देखें 'वदली' ।

वदरीनाथ—(सं. पुं.) हिमालय पर्वत के एक शिखर का नाम जहाँ पर वदरी-नारायण का मन्दिर है ।

वदरीनारायण—(सं. पुं.) वह देव मूर्ति जो वदरिकाश्रम में है ।

वदरौह—(हि. वि.) कुमांगी; (हि. पुं.) वदली का आमास, भला-बुरा कहने में कुछ संकोच न होना ।

वदलना—(हि. क्रि. अ., स.) परिवर्तित होना, भिन्न होना, एक के स्थान पर दूसरे को

करना, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, एक के स्थान पर दूसरा हो जाना; (मुहा.) वात बदलना—कोई वात कहकर उससे मुकर जाना ।

वदलवाना—(हि. क्रि. स.) बदलने का काम दूसरे से कराना ।

वदला—(हि. पुं.) विनिमय, परस्पर लेन-देन का व्यवहार, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु-देना, प्रतिकार, प्रतिफल, पलटा, किसी कर्म का परिणाम जो भोगना पड़े, अपकार के उत्तर में अपकार करना, प्रतिशोध ।

वदलाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'वदलवाना' ।

वदली—(हि. स्त्री.) नम में फैला या छाया हुआ बादल, एक के स्थान पर दूसरे की नियुक्ति, एक पद से दूसरे पद पर नियुक्ति, स्थानांतरण ।

वदलौवल—(हि. स्त्री.) अदल-वदल, हेर-फर, उलट-फेर ।

वदस्तूर—(फा. अव्य.) यथापूर्व, पहलेकीतरह ।

वदा—(हि. वि.) प्रारब्ध में लिखा हुआ ।

वदान—(हि. स्त्री.) किसी वात का प्रतिज्ञापूर्वक वदा या स्थिर किया जाना ।

वदावदी—(हि. स्त्री.) दो पक्षों की एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतिज्ञा या होड़, लाग-डाँट ।

वदाम—(हि. पुं.) देखें 'वादाम' ।

वदामी—(हि. वि.) वदाम के रंग का ।

वदि—(हि. स्त्री.) वदला, पलटा; (अव्य.) वास्ते, वदले म ।

वदी—(हि. स्त्री.) कृष्ण-पक्ष, अँधेरा पाख ।

वदे—(हि. अव्य.) वास्ते, लिये ।

वदौलत—(फा. अव्य.) के सहारे, के द्वारा ।

वद्—(हि. वि.) अपमानित ।

वद्दर, वद्दल—(हि. पुं.) देखें 'वादल' ।

वद्ध—(सं. वि.) बाँधा हुआ, बँधा हुआ, फँसा हुआ, विना स्वातंत्र्य का, परिमित, व्यवस्थित, निर्धारित, जुड़ा हुआ, ठहराया हुआ, अज्ञान में फँसा हुआ ;—क—(पुं.) वन्दी ;—कोष्ठ—(पुं.) अच्छी तरह मल न निकलने की शिकायत या रोग ;—जिह्व—(वि.) जिसको बोलने में संकोच होता हो ;—परिकर—(वि.) कमर बाँधे हुए, तैयार ;

—पुरीष—(वि.) जिसको कब्ज का रोग हो ;—फल—(पुं.) करंज का वृक्ष ;—मुष्टि—(वि.) जिसकी मुट्ठी बंधी हो, कृपण, प्रकार ;—रसाल—(पुं.) एक उत्तम प्रकार का आम ;

—वर्चस—(वि.) मल का अवरोध करने वाला ;—धीर—(वि.) जिसकी सेना

शत्रुओं से घिर गई हो ; -शिख-(वि.) जिसकी शिखा या चोटी वैधी हो ।
 यद्धी-(हि. स्त्री.) डोरी, रस्सी, बाँधने की कोई वस्तु, चार लड़ों का एक आभूषण ।
 यध-(सं. पुं.) हनन, हत्या ।
 यधक-(सं. वि.) वध करनेवाला, हत्या करनेवाला ; (पुं.) व्याध, मृत्यु ।
 यधगराड़ी-(हि. स्त्री.) रस्सी बँटने का एक औजार ।
 यधना-(हि. क्रि. स.) वध करना, हत्या करना ।
 यधभूमि-(सं. स्त्री.) वह स्थान जहाँ अपराधियों को प्राणदण्ड दिया जाता है ।
 यधत्वली-(सं. स्त्री.) श्मशान ।
 यवाई-(हि. स्त्री.) वृद्धि, बढ़ती, मंगल अवसर का गाना-ब्रजाना, शुभ अवसर पर दिया जानेवाला उपहार, चहल-पहल, शुभ अवसर पर आनन्द का सन्देश ।
 यधाना-(हि. क्रि. स.) वध कराना ।
 यधाया-(हि. पुं.) देखें 'वधाई' ।
 यधावना-(हि. पुं.) देखें 'वधावा' ।
 यधावा-(हि. पुं.) वधाई, मंगल अवसरों पर संबंधियों तथा इष्ट-मित्रों के यहाँ से आनेवाला उपहार, मंगलाचार, मंगल अवसर पर का गाना-ब्रजाना ।
 यधिक-(हि. पुं.) वध करनेवाला, मारनेवाला, व्याध, वहेलिया ।
 यधिया-(हि. पुं.) वह पशु जिसको अण्ड-कोश कुचलकर या निकालकर पंड या नपुंसक कर दिया गया हो, खस्सी, एक प्रकार की मीठी ऊख ।
 यधियाना-(हि. क्रि. स.) यधिया करना या वनाना ।
 यधिर-(सं. वि.) बहरा, जिसे सुनने की शक्ति न हो; -ता-(स्त्री.) बहरापन ।
 यधू-(हि. स्त्री.) वधू, नव-विवाहिता स्त्री, पतोहू, भार्या, पत्नी ।
 यधूटी-(सं. स्त्री.) पुत्र की स्त्री, पतोहू, नई आई हुई बहू, सोभाग्यवती स्त्री ।
 यधूत्व-(सं. पुं.) वधू का प्रथम रजोदर्शन ।
 यधूरा-(हि. पुं.) अंधड़, बवंडर ।
 यधया-(हि. स्त्री.) वधाई ।
 यधोद्यत-(सं. वि.) जो मारने के लिये उद्यत हो ।
 यधय-(सं. वि.) मार डालने योग्य; -भूमि-(स्त्री.) वध करने का स्थान, श्मशान ।
 यन-(हि. पुं.) देवों 'वन,' जंगल, अरण्य, वाग, बगीचा ।
 यनआलू-(हि. पुं.) जमीनन्द के प्रकार का एक पौधा ।

वनडर-(हि. पुं.) विनौला ।
 वनकंडा-(हि. पुं.) वह कंडा जो जंगल में आप से आप मूखकर तैयार होता है, जंगल का मूखा गोबर ।
 वनक-(हि. स्त्री.) वन या जंगल की उपज, सजबज, वेशभूषा ।
 वनकटी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का वाँस ।
 वनकर-(हि. पुं.) जंगल में होनेवाले पदार्थों की आय या उनपर लगनेवाला कर ।
 वनकल्ला-(हि. पुं.) एक प्रकार का जंगली वृक्ष ।
 वनकस-(हि. पुं.) एक प्रकार की जंगली घास ।
 वनकोरा-(हि. पुं.) लोनिया का साग ।
 वनखंड-(हि. पुं.) जंगल का कोई भाग ।
 वनखंडी-(हि. स्त्री.) छोटा-सा जंगल; (वि.) वन में रहनेवाला ।
 वनखरा-(हि. पुं.) वह खेत जिसमें पिछली उपज कपास रही हो ।
 वनगाव-(हि. पुं.) एक प्रकार का बड़ा हिरन ।
 वनचर-(हि. पुं.) वन्य पशु, जंगल में रहनेवाला पशु, जंगली मनुष्य ।
 वनचारी-(हि. पुं., वि.) वन में घूमनेवाला, जंगल में रहनेवाला मनुष्य या पशु ।
 वनचौर-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की जंगली गाय, सुरागाय ।
 वनज-(हि. पुं.) कमल, शंख, जंगल में होनेवाले पदार्थ, वाणिज्य, व्यवसाय ।
 वनजना-(हि. क्रि. अ.) व्यापार करना ।
 वनजर-(हि. पुं.) देखें 'वंजर' ।
 वनजात-(हि. पुं.) कमल, पद्म ।
 वनजारा-(हि. पुं.) वह व्यापारी जो बेलों पर अन्न लादकर देश-देश में घूमकर बेचता है, टांडा, व्यापारी, बनिया ।
 वनजी-(हि. पुं.) व्यापारी ।
 वनज्योत्स्ना-(हि. स्त्री.) माघवी लता ।
 वनड़ा-(हि. पुं.) एक राग का नाम; -जंत-(पुं.) रूपक ताल पर बजनेवाला एक राग ।
 वनत-(हि. स्त्री.) रचना, वनावट, अनुकूलता, मेल, रेगम या मंगमल पर काइने की एक प्रकार की बेल ।
 वनताई-(हि. स्त्री.) जंगल का पतान या भयंकरता ।
 वनतुर्ई-(हि. स्त्री.) बंदाल ।
 वनतुलसी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पौधा जिसकी पत्नी और मंजरी गुन्नी के समान होती है ।
 वनर-(हि. पुं.) भेग, वादल ।

वनदाम-(हि. पुं.) वनमाला ।
 वनदेवी-(हि. स्त्री.) वन की अधिष्ठात्री देवी ।
 वनधातु-(सं. स्त्री.) गेरू, कोई रंगीन मिट्टी ।
 वनना-(हि. क्रि. अ.) रचा जाना, तैयार होना, आपस में मित्रता होना, अच्छा अवसर प्राप्त होना, स्वांग का स्वहन धारण करना, मूर्ख बहर्ना, शृंगार करना, महत्त्व की मुद्रा धारण करना, सफल होना, कोई विशेष पद या अधिकार प्राप्त करना, आविष्कार होना, अपने को अधिक योग्य दंगित करना, संभव होना, ठीक होना, किसी पदार्थ का व्यवहार में आने योग्य होना, एक पदार्थ का रूप बदलकर दूसरा पदार्थ हो जाना; (मुहा.) वना रहना-जीवित रहना, उपस्थित रहना; वनकर-(अव्य.) अच्छी तरह से ।
 वननि-(हि. स्त्री.) वनावट, सिंगार ।
 वननिधि-(हि. पुं.) समुद्र ।
 वनपट-(हि. पुं.) वृक्षों की छाल आदि से बनाया हुआ कपड़ा ।
 वनपति-(हि. पुं.) सिंह, घेर ।
 वनपथ-(हि. पुं.) वह मार्ग जो जंगल बीच से गया हो ।
 वनपाट-(हि. पुं.) जंगली पट्टा ।
 वनपाती-(हि. स्त्री.) देखें 'वनस्पति' ।
 वनपाल-(हि. पुं.) वन या वाग का रक्षक ।
 वनप्रिय-(हि. पुं.) कौकिल, कौयल ।
 वनफल-(हि. पुं.) जंगली मेवा ।
 वनवारी-(हि. स्त्री.) वनकन्या, फूर्तों का बगीचा ।
 वनवात-(हि. पुं.) वन में रहने या वन की धिया या भाव, प्राचीन काल का देश से निकाले जाने का संत ।
 वनवासी-(हि. पुं.) वन में रहनेवाला, जंगली ।
 वनवाहन-(हि. पुं.) जलमग्न, नाव ।
 वनविलाव-(हि. पुं.) विल्ली की जाति का एक जंगली जन्तु ।
 वनमानुष-(हि. पुं.) एक प्रकार का बंदर जो बहुत बड़ा होता है और जिसका आकार मनुष्य से मिलता-जुलता है, विलकुल जंगली आदमी ।
 वनमाला-(हि. स्त्री.) सुलमी, गुंड, भण्डार, पारिजात और कनक—उन पाँचों फूलों की बनी हुई माला ।
 वनमाली-(हि. पुं.) वनमाला धारण करनेवाला, सिंगार, भण्डार, वादल ।

वनमुरगा—(हि. पुं.) जंगली मुरगा ।
 वनर—(हि. पुं.) एक प्रकार का अस्त्र ।
 वनरखा—(हि. पुं.) वन का रक्षक, जंगल की रखवाली करनेवाला, बहेलियों तथा जंगल में रहनेवालों की एक जाति ।
 वनरा—(हि. पुं.) वर, दूल्हा, विवाह के समय का एक प्रकार का मंगल-गीत ।
 वनराज, वनराय—(हि. पुं.) जंगल का राजा, सिंह, बहुत बड़ा वृक्ष ।
 वनरी—(हि. स्त्री.) नववधू, नई आई हुई बहू ।
 वनरीठा—(हि. पुं.) एक प्रकार का जंगली रीठा ।
 वनरीहा—(हि. पुं.) एक प्रकार की घास ।
 वनरुह—(हि. पुं.) वह पौधा जो जंगल में अधिकतर उगता है, जंगली पेड़, पद्म, कमल ।
 वनवना—(हि. क्रि. स.) देखें 'वनाना' ।
 वनवर—(हि. पुं.) विनोला ।
 वनवत्सन—(हि. पुं.) वृक्ष की छाल का वना हुआ कपड़ा ।
 वनवा—(हि. पुं.) पनडुब्बी नामक जलपक्षी ।
 वनवाना—(हि. क्रि. स.) वनाने का काम दूसरे से कराना ।
 वनवारी—(हि. पुं.) वनमाली, श्रीकृष्ण का एक नाम ।
 वनवासी—(हि. पुं.) जंगल में रहनेवाला ।
 वनवैया—(हि. पुं.) वनानेवाला ।
 वनसपत्नी—(हि. स्त्री.) देखें 'वनस्पति' ।
 वनसार—(हि. पुं.) जहाज पर चढ़ने-उतरने का स्थान ।
 वनसी—(हि. स्त्री.) देखें 'वंशी' ।
 वनस्थली—(हि. स्त्री.) वनखण्ड, जंगल का कोई भाग ।
 वनस्पती—(हि. स्त्री.) देखें 'वनस्पति' ।
 वनहटी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी नाव ।
 वनहरदी—(हि. स्त्री.) दाहलदी ।
 वना—(हि. पुं.) वर, दूल्हा, एक छन्द का नाम, (इसका दूसरा नाम ढण्डकला है) ।
 वनाइ—(हि. अव्य.) अत्यन्त, बहुत, मली माँति, अच्छी तरह ।
 वनाड—(हि. पुं.) देखें 'वनाव' ।
 वनाग्नि—(हि. स्त्री.) दावानल ।
 वनात—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का ऊनी वस्त्र जो बहुत गरम होता है ।
 वनाती—(हि. वि.) वनात का वना हुआ ।
 वनाना—(हि. क्रि. स.) प्रस्तुत करना, रचना, किसी पदार्थ का रूप बदलकर दूसरा पदार्थ तैयार करना, दुखत करके

अपने व्यवहार के योग्य करना, आविष्कार करना, पूरा करना, कमाना, अन्न साफ करना, मूर्ख ठहराना, कोई विशेष पद अथवा शक्ति देना, अच्छी स्थिति में पहुँचाना, मरम्मत करना, ठीक रूप या दशा में लाना, उपाजित करना; वनाकर—(अव्य.) मली माँति, अच्छी तरह ।
 वनाकर—(हि. पुं.) क्षत्रियों की एक जाति ।
 वनावंत—(हि. पुं.) गणना करने के निमित्त वर और कन्या की जन्मकुण्डलियाँ मिलाना ।
 वनाम—(फा. अव्य.) के नाम से या नाम पर ।
 वनाय—(हि. अव्य.) पूर्ण रूप से, अच्छी तरह ।
 वनार—(हि. पुं.) काश, कसौंदा, एक प्राचीन राज्य जो वर्तमान काशी की उत्तरी सीमा पर था। (कहा जाता है कि 'वनारस' नगर का नाम इसी राज्य के नाम पर पड़ा है) ।
 वनारसी—(हि. वि., पुं.) काशी-संबंधी, काशी-निवासी ।
 वनारी—(हि. स्त्री.) कोलू में लगी हुई रस गिरने की वाँस की नली ।
 वनाव—(हि. पुं.) रचना, वनावट, शृंगार, सजावट, युक्ति ।
 वनावट—(हि. स्त्री.) बनने या बनाने का भाव, गढ़न, ऊपरी दिखावा, आडंबर ।
 वनावटी—(हि. वि.) कृत्रिम, दिखावा ।
 वनावन—(हि. पुं.) (कंकड़ी, मिट्टी, छिलके आदि) जो अन्न को स्वच्छ करने पर निकले, बिनन; -हारा—(पुं.) रचयिता, बनानेवाला, बिगड़े को बनानेवाला ।
 वनावरि—(सं. स्त्री.) बाणों की पंक्ति ।
 वनासपति, वनासपाती—(हि. स्त्री.) देखें 'वनस्पति', जड़ी-बूटी, पत्ती, फल-फल आदि ।
 वनि—(हि. वि.) समस्त, सब ।
 वनिक—(हि. पुं.) वणिक, बनिया ।
 वनिज—(हि. पुं.) वस्तुओं का त्रय-विक्रय, व्यवसाय, व्यापार की वस्तु ।
 वनिजना—(हि. क्रि. अ.) व्यापार करना, खरीदना-बेचना, अपने अधीन करना ।
 वनिजाति—(हि. स्त्री.) व्यापार की सामग्री ।
 वनिजारा—(हि. पुं.) देखें 'वनजारा' ।
 वनिजारिन—(हि. स्त्री.) वनजारा जाति की स्त्री ।
 वनजारी—(हि. स्त्री.) वनजारे की स्त्री ।
 वनित—(हि. पुं.) वेश-भूषा, वानक ।
 वनिता—(हि. स्त्री.) स्त्री, मार्या, पत्नी ।
 वनिया—(हि. पुं.) व्यापार करनेवाला मनुष्य, वैश्य, आटा, चावल आदि बेचने-

वाला मोदी ।
 वनियाइन—(हि. स्त्री.) बनिये की स्त्री, सूत, रेशम आदि की बुनी हुई बंडी या कुरती जो शरीर से चिपकी रहती है ।
 वनिस्वत—(फा. अव्य.) की अपेक्षा, मुकाबले में ।
 वनिहार—(हि. पुं.) वह भूय जो खेती के लिये नियुक्त किया जाता है ।
 वनी—(हि. स्त्री.) वनस्थली, वाटिका, नायिका, दुल्हन, अन्न के रूप में मिलनेवाली मजदूरी, वन का छोटा खंड ।
 वनीनी—(हि. स्त्री.) वैश्य जाति की स्त्री, बनिये की स्त्री ।
 वनेठी—(हि. स्त्री.) वह लंबी लाठी जिसके दोनों सिरों पर लट्टू लगे रहते हैं तथा जिसका व्यवहार पटेवाजी के खेल या अभ्यासों में किया जाता है ।
 वनैला—(हि. वि.) वन्य, जंगली ।
 वनौटी—(हि. वि.) कपासी, -कपास के फूल के रंग का ।
 वनौरी—(हि. स्त्री.) वर्षा के साथ गिरने-वाला ओला, उपल ।
 वनौवा—(हि. वि.) कृत्रिम, वनावटी ।
 वन्नी—(हि. स्त्री.) उपज का कोई अंश जो खेत में काम करनेवालों को मजदूरी में दिया जाता है ।
 वन्हि—(हि. स्त्री.) देखें 'वह्नि' ।
 वप—(हि. पुं.) वाप, पिता; -मार—(वि.) अपने पिता की हत्या करनेवाला, सब के साथ अन्याय करनेवाला ।
 वपना—(हि. क्रि. स.) बीज बोना ।
 वपु, वपुख—(हि. पुं.) देखें 'वपु', शरीर, अवतार, रूप ।
 वपुरा—(हि. वि.) अशक्त, बेचारा ।
 वपौती—(हि. स्त्री.) पिता से मिली हुई सम्पत्ति ।
 वप्पा—(हि. पुं.) पिता, वाप ।
 वफीरी—(हि. स्त्री.) भाफ से पकाई हुई वरी ।
 वक्कना—(हि. क्रि. अ.) आवेग में आकर वकना या बोलना, वमकना ।
 ववा—(हि. पुं.) देखें 'वावा' ।
 ववुआ—(हि. पुं.) पुत्र या दामाद के लिये प्यार का शब्द, रईस, भूमिस्वामी ।
 ववुई—(हि. स्त्री.) कन्या, बेटा, किसी सरदार या रईस की बेटा, छोटी ननद ।
 ववुर, ववूल—(हि. पुं.) एक प्रसिद्ध कंटीला वृक्ष जो मझोले कद का होता है ।
 ववूला—(हि. पुं.) देखें 'वगूला', मुलमुला ।

बभनी—(हि. स्त्री.) छिपकली के आकार का एक पतला छोटा कौड़ा जिसके शरीर पर सुन्दर लम्बी धारियाँ होती हैं।
 बभूत—(हि. स्त्री.) देखें 'भभूत', विभक्ति।
 बभ्रु—(सं. पुं.) अग्नि, शिव, विष्णु, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम, कपिला गौ; -क—(पुं.) नेवला, वन्दर; -घातु—(स्त्री.) सोना, सुवर्ण, गेरू; -वाहन—(पुं.) अर्जुन के एक पुत्र का नाम।
 बभ्र—(हि. पुं.) शिव के उपासकों का पूजन का शब्द, शहनाई के साथ का बाईं ओर का नगाड़ा, वह लम्बा वांस जो गाड़ी आदि में आगे की ओर लगा रहता है जिसमें घोड़ा खड़ा करके जोता जाता है; (मुहा.)—बोलना—सब सामग्रियों का समाप्त होना।
 बब—(अं.पुं.) विस्फोटक वस्तुओं को भरकर बनाया हुआ लोहे का गोला; -गोला—(पुं.) बम का गोला; -बाज—(पुं.) शत्रु पर बम गिरानेवाला; -बाजी—(स्त्री.) बम की वर्षा।
 बभकना—(हि. क्रि. अ.) डींग हँकना।
 बभचख—(हि. स्त्री.) लड़ाई, झगड़ा।
 बभना—(हि. क्रि. अ.) बभन करना।
 बभगुलिस—(हि. पुं.) देखें 'बंगुलिस'।
 बभीठा—(हि. पुं.) बल्मीक, बाँवी।
 बभनवियाव—(हि. पुं.) पहले-पहले ऊख पेरते समय इसका कुछ रस ब्राह्मणों को पिलाना।
 बभनी—(हि. स्त्री.) देखें 'बभनी', ऊख का एक रोग, लाल रंग की भूमि, आँख का एक रोग।
 बय—(हि. पुं.) देखें 'बय'।
 बयन—(हि. पुं.) वैन, वाणी, बात।
 बयना—(हि. क्रि. स.) वर्णन करना, कहना, वीज जमाना या लगाना; (पुं.) देखें 'बायन'।
 बयनी—(हि. स्त्री.) बोलनेवाली।
 बयर—(हि. पुं.) देखें 'वैर'।
 बयल—(हि. पुं.) बैल।
 बयस—(हि. स्त्री.) देखें 'बय'।
 बया—(हि. पुं.) गौरैया के आकार तथा रंग का एक प्रसिद्ध पक्षी जो बड़ी चातुरी से अपना घोंसला तृणों से बनाता है; अनाज तोलनेवाला मनुष्य।
 बयाई—(हि. स्त्री.) अन्न आदि तोलने का शुल्क, तोलाई।
 बयान—(अ. पुं.) कथन, उक्ति, वचन, वास्तव्य।
 बयाना—(हि.पुं.) वह वन जो किसी काम

के लिये वात पक्की हो जाने पर अग्रिम दिया जाता है और मूल्य चुकता देते समय काट लिया जाता है; (क्रि.अ.) बड़-बड़ाना।
 बयार—(हि. स्त्री.) पवन, हवा।
 बयारि—(हि. स्त्री.) हवा का मंद झोंका।
 बयारी—(हि. स्त्री.) देखें 'बयार'।
 बयाला—(हि. पुं.) भीत में का छेद या झरोखा, ताख, आला, गढ़ की भीत में का वह छोटा छिद्र जिसमें से तोप का गोला छोड़ा या दागा जाता है, पटाव के नीचे का स्थान, गढ़ में वह स्थान जहाँ तोपें लगी रहती हैं।
 बयालि(ली)स—(हि.पुं.) चालीस और दो की संख्या, ४२; (वि.) जो संख्या में चालीस और दो हो; -बाँ—(वि.) जो क्रम में बयालीस के स्थान पर हो।
 बयासी—(हि. वि.) अस्सी और दो की संख्या का; (पुं.) अस्सी और दो की संख्या, ८२।
 बरंग—(हि. पुं.) एक छोटा वृक्ष जिसकी लकड़ी सफेद और मृदु होती है।
 बरंगा—(हि. पुं.) छत पाटने की पत्थर की पटिया या लकड़ी।
 बर—(हि.पुं.) वह जिसका विवाह होने जा रहा हो, दूल्हा, आशीर्वादसूचक वचन, बल, शक्ति, बर का पेड़; (वि.) श्रेष्ठ।
 बरई—(हि. पुं.) पान की खेती करनेवाली एक जाति, तमोली।
 बरकत—(अ. स्त्री.) वृद्धि, बढ़ोतरी, लाभ।
 बरकती—(अ. वि.) बरकत से युक्त।
 बरकना—(हि. क्रि. अ.) निवारण होना, वचना, अलग रहना, हटना।
 बरकाज—(हि. पुं.) विवाह।
 बरकाना—(हि. क्रि. स.) निवारण करना, वचाना, पीछा छुड़ाना, फुसलाना।
 बरख—(हि. पुं.) वर्ष, साल।
 बरखना—(हि. क्रि. अ.) वर्षा होना, पानी बरसना।
 बरखा—(हि. स्त्री.) वर्षा, वृष्टि, पानी बरसना, वर्षा ऋतु।
 बरखास्त—(फा. वि.) नौकरी से निकाला हुआ।
 बरखास्तगी—(फा. स्त्री.) बरखास्त होने की क्रिया या भाव।
 बरगंव—(हि. पुं.) सुगन्धित मसाला।
 बरगद—(हि. पुं.) बट वृक्ष, बर का पेड़।
 बरगेल—(हि.पुं.) एक प्रकार का पक्षी।
 बरचर—(हि. पुं.) एक प्रकार का देवदार वृक्ष।

बरछा—(हि. पुं.) फेंककर या भोंककर मारने का एक अस्त्र, नाला।
 बरछैत—(हि. पुं.) बरछा चलानेवाला।
 बरजना—(हि. क्रि. स.) मना करना, रोकना।
 बरजनि—(हि. स्त्री.) रकावट, मनाही।
 बरजोर—(हि. वि.) प्रबल, अत्याचारपूर्वक या अनुचित रीति से बल का प्रयोग करनेवाला; (अव्य.) बलात्।
 बरजोरो—(हि. स्त्री.) बल का प्रयोग; (अव्य.) बलपूर्वक।
 बरट—(सं. पुं.) एक प्रकार का अन्न।
 बरणना—(हि. क्रि. स.) वर्णन करना।
 बरत—(हि. पुं.) व्रत, उपवास; (स्त्री.) रस्ती, वह रस्सा जिस पर चढ़कर नट खेल करता है।
 बरतन—(हि. पुं.) कोई वस्तु रखने का मिट्टी या घातु का पात्र, व्यवहार।
 बरतना—(हि. क्रि. अ., स.) व्यवहार में लाना, बरताव करना।
 बरतनी—(हि. स्त्री.) शब्द का वर्ण-क्रम, लकड़ी की लेखनी, लिखने का ढंग।
 बरताना—(हि. क्रि. स.) वितरण करना, बाँटना।
 बरताव—(हि.पुं.) किसी के प्रति आचरण का ढंग, व्यवहार।
 बरती—(हि. वि.) जिसने व्रत या उपवास किया हो।
 बरतेला—(हि. स्त्री.) जुलाहे के करगह के दाहिने ओर की खूटी।
 बरतोर—(हि. पुं.) बाल की जड़ टूट जाने से होनेवाला फोड़ा।
 बरदाना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'बरदाना'।
 बरदवान—(हि. पुं.) तीव्र धापु।
 बरदवाना—(हि. क्रि. स.) बरदाने का काम दूसरे से कराना।
 बरदा—(हि. पुं.) देखें 'बरदा'।
 बरदाना—(हि. क्रि. अ., स.) गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं का उनकी जाति के नर पशुओं से संतान उत्पन्न कराने के लिये संयोग होना, जोड़ा खाना या खिलाना।
 बरदोर—(हि. पुं.) मवेशियों को दाने का स्थान।
 बरव(वा)—(हि. पुं.) बैल।
 बरवधाना, बरवाना—(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'बरदाना'।
 बरवी—(हि. पुं.) एक प्रकार का चमड़ा।
 बरन—(हि. पुं.) देणें 'वर्ण'।
 बरनन—(हि. पुं.) देणें 'वर्णन'।
 बरनना—(हि. क्रि. स.) वर्णन करना;

वरना—(हि. क्रि. अ., स.) पति या पत्नी के रूप में अंगीकार करना, दान देना, किसी काम में लगाना, किसी काम के लिये किसी को चुनना, देखें 'जलना'।
वरनाला—(हि. पुं.) जहाज में का पानी निकालने का मार्ग या परनाला।
वरनेत—(हि. स्त्री.) विवाह-कृत्य के पहले होनेवाली एक रीति।
वरफ—(हि. स्त्री.) हिम।
वरफी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की मिठाई जो खोया आदि को चीनी की चाशनी में जमाकर बनती है।
वरवंड—(हि. पुं.) प्रचण्ड, बलवान्, उद्वुड, बलवंत।
वरवट—(हि. अव्य.) देखें 'वरवस'।
वरवर—(हि. स्त्री.) व्यर्थ की बात; (वि.) वर्षर।
वरवरी—(हि. स्त्री.) एक देश का नाम, एक प्रकार की बकरी।
वरवस—(हि. अव्य.) बलपूर्वक, व्यर्थ।
वरम—(हि. पुं.) कवच।
वरमा—(हि. पुं.) लकड़ी आदि में छेद करने का एक औजार, ब्रह्मदेश।
वरमी—(हि. पुं.) वरमा देश का रहनेवाला; (स्त्री.) वरमा देश की भाषा, छोटा वरमा।
वरम्हा—(हि. पुं.) ब्रह्मा, वरमा देश।
वरम्हाना—(हि. क्रि. स.) ब्राह्मण का आशीर्वाद देना।
वरम्हाव—(हि. पुं.) ब्राह्मण का आशीर्वाद।
वररे—(हि. पुं.) देखें 'वर'।
वरवट—(हि. स्त्री.) तिल्ली नाम का रोग।
वरवल—(हि. पुं.) एक प्रकार की पहाड़ी भेड़।
वरवा, वरवै—(हि. पुं.) ध्रुव या कुंरंग नाम का छन्द जिसमें उन्नीस मात्राएँ होती हैं।
वरषना—(हि. क्रि. अ.) वरसना, वर्षा होना।
वरषा—(हि. स्त्री.) वृष्टि, पानी वरसना, वर्षाकाल, वरसात।
वरषासन—(हि. पुं.) अन्न का उतना परिमाण जितना एक परिवार एक वर्ष में खा सके।
वरस—(हि. पुं.) वर्ष, तीन सौ पैसठ दिनों अथवा बारह महीनों का समूह; —गाँठ—(स्त्री.) सालगिरह, वह दिन जब किसी का जन्म हुआ हो, जन्म-दिन।
वरसना—(हि. क्रि. अ.) आकाश से जल के बूँदों का निरन्तर गिरना, वर्षा के जल की तरह किसी पदार्थ का ऊपर से गिरना, अधिक मात्रा या संख्या में उपलब्ध होना, ओसाया जाना।

वरसाइत—(हि. स्त्री.) ज्येष्ठ मास की अमावस्या जिस दिन स्त्रियाँ वटसावित्री का पूजन करती हैं।
वरसाइन—(हि. स्त्री.) प्रति वर्ष व्यानेवाली गाय।
वरसात—(हि. स्त्री.) वर्षाऋतु, वर्षाकाल।
वरसाती—(हि. वि.) वर्षा-सम्बन्धी, वरसात का; (पुं.) वरसात में होनेवाला घोड़ों का एक रोग, चरस पक्षी, वरसात में होनेवाली एक प्रकार की फुंसियाँ, वर्षा ऋतु में पहनने का एक प्रकार का कपड़ा जिसके पहनने से शरीर नहीं भीगता।
वरसाना—(हि. क्रि. स.) वृष्टि या वर्षा करना, अन्न को ओसाना, वर्षा की तरह निरन्तर ऊपर से गिराना, अधिक मात्रा या संख्या में चारों ओर से प्राप्त कराना।
वरसायत—(हि. स्त्री.) शुभ मुहूर्त, देखें 'वरसाइत'।
वरसावना—(हि. क्रि. स.) देखें 'वरसाना'।
वरसी—(हि. स्त्री.) वह श्राद्ध जो किसी मृतक के उद्देश्य से उसके मरने की तिथि से ठीक एक वर्ष बाद किया जाता है।
वरसीला—(हि. वि.) वरसानेवाला।
वरसु—(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष।
वरसौड़ी—(हि. स्त्री.) प्रति वर्ष लिया जानेवाला कर।
वरसौहा—(हि. वि.) वरसनेवाला।
वरहंटा—(हि. पुं.) कड़वा भंटा।
वरहा—(हि. पुं.) खेत में सिंचाई के लिये बनाई हुई छोटी नाली, मोटा रस्सा।
वरही—(हि. पुं.) मोर, मुरगा; (स्त्री.) इंधन का बोझ, भारी पटिया आदि उठाने का मोटा रस्सा, साही नामक जन्तु, सन्तान उत्पन्न होने के बारहवें दिन प्रसूता का स्नान तथा अन्य कृत्य; —पीड़—(पुं.) मोर के परों का बना हुआ मुकुट; —मुख—(पुं.) देवता।
वरहों—(हि. पुं.) वरही का कृत्य।
वरहण्ड—(हि. पुं.) देखें 'ब्रह्माण्ड'।
वरह्मावना—(हि. क्रि. स.) ब्राह्मण का आशीर्वाद देना, असीस देना।
वरांडल—(हि. पुं.) जहाज के मस्तूल को बाँधने का रस्सा।
वरांडा—(हि. पुं.) देखें 'वरामदा'।
वरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पकवान जो उड़द की दाल को पीसकर बनाया जाता है, भुजा पर पहनने का एक गहना।
वराई—(हि. स्त्री.) देखें 'वड़ाई'।

वराक—(हि. पुं.) युद्ध, लड़ाई, महादेव; (वि.) अवम, पापी, बेचारा, वापुरा।
वराट—(हि. पुं.) कौड़ी।
वरात—(हि. स्त्री.) वर पक्ष के लोग जो विवाह के समय वर के साथ कन्या के घर जाते हैं, जनैत, एक साथ जानेवाले अनेक मनुष्यों का समुदाय।
वराती—(हि. पुं.) वर के साथ कन्या के घर वरात में जानेवाला मनुष्य।
वरान-कोट—(हि. पुं.) वह ऊनी कोट जो सिपाही जाड़े या वरसात में वर्षों के ऊपर पहनते हैं।
वराना—(हि. क्रि. स.) परहेज करना, अलग रसना, बचाना, रक्षा करना, प्रसंग पड़ने पर भी कोई बात छिपा रखना, टालना, छाँटना, नाली का पानी क्यारी में बहाना; चुनना।
वराबर—(फा. वि.) तुल्य, सदृश, समान, समतल, एक-सा; (अव्य.) लगातार, हर समय, सदा; (मुहा.)—पर छटना—कुश्ती आदि में दोनों लड़नेवालों का बिना हारे-जीते अलग हो जाना।
वरावरी—(फा. स्त्री.) समानता, सदृशता, तुल्यता, प्रतिस्पर्धा।
वरामद—(फा. पुं.) प्रकट होना, बाहर आना; (मुहा.)—करना—छिपाई हुई वस्तुओं को तलाशी द्वारा ढूँढ़ निकालना।
वरामदगी—(फा. स्त्री.) वरामद होने की क्रिया या भाव।
वरामदा—(फा. पुं.) मकान के सामने खंभों पर टिका हुआ ओसारा।
वरायन—(हि. पुं.) विवाह के समय वर के हाथ में पहनाने का लोहे का छल्ला।
वरायनाम—(फा. अव्य.) नाममात्र को।
वरार—(हि. पुं.) एक प्रकार का जंगली पशु।
वरारक—(हि. पुं.) हीरक, हीरा।
वरारी—(हि. स्त्री.) सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी; —श्याम—(पुं.) एक संकर राग का नाम।
वराव—(हि. पुं.) निवारण, बचाव।
वरस—(हि. पुं.) भीमसेनी कपूर, पाल को घुमाने की रस्सी।
वराह—(हि. पुं.) देखें 'वरह'।
वराही—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की पतलीऊख।
वरिआत—(हि. स्त्री.) देखें 'वरांत'।
वरिआर—(हि. वि.) प्रवल, बलवान्।
वरिया—(हि. वि.) बलवान्, पुष्ट।
वरियाई—(हि. अव्य.) बलपूर्वक; (स्त्री.) बल-प्रयोग।
वरियारा—(हि. पुं.) एक प्रकार का

रोहिणी ।

वलवलाना—(हि.क्रि.अ.) ऊँट का बोलना, निरर्थक शब्द बोलना, व्यर्थ बकवाद करना ।

वलवलहाट—(हि. स्त्री.) ऊँट की बोली, व्यर्थ बकवाद, अहंकार, घमंड ।

वलवीज—(हि. पुं.) ककही नामक पौधे का बीज ।

वलवीर—(हि.पुं.) वलराम के भाई, श्रीकृष्ण ।

वलभ—(सं. पुं.) एक विपैला कीड़ा ।

वलभद्र—(सं. पुं.) अनन्त, वलदेवजी, लोच, नील गाय, एक पर्वत का नाम ।

वलभद्रा—(सं.स्त्री.) कुमारी, जंगली गाय ।

वलभी—(हि. स्त्री.) वह कोठरी जो घर के सबसे ऊपरवाली छत पर बनी हो, चौवारा ।

वलभ, वलभा—(हि. पुं.) पति, नायक ।

वलभ—(हि. पुं.) देखें 'वलभ' ।

वलराम—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण के बड़े भाई जो रोहिणी से उत्पन्न थे ।

वलल—(सं. पुं.) वलराम ।

वलवंड—(हि. वि.) बलवान् ।

वलवंत—(हि. वि.) बलवान्, बली ।

वलवल—(सं.वि.) शक्तिमान् ; (पुं.) शिव ।

वलवर्धन—(सं. पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम, सेना की वृद्धि ; (वि.) बल बढ़ानेवाला ।

वलवा—(हि.पुं.) दंगा, दो दलों में होनेवाली मारपीट, बगावत, उपद्रव ।

वलवान्—(सं. वि.) वलिष्ठ, दृढ़, शक्तिमान् ।

वलविकणिका—(सं. स्त्री.) दुर्गा का एक नाम ।

वलविन्यास—(सं. पुं.) युद्ध के लिये सैन्य व्यूह की रचना ।

वलवीर—(हि. पुं.) देखें 'वलवीर' ।

वलव्यसन—(सं. पुं.) सेना का तितर-वितर होना ।

वलव्यह—(सं.पुं.) एक प्रकार की समाधि ।

वलशाली—(सं. वि.) बलवान् ।

वलशील—(सं. वि.) बलवान्, बली ।

वलसंभव—(सं. पुं.) साठी का धान ।

वलमुम—(हि.वि.) वल्लुआ, जिसम बालू हो ।

वलसूदन—(सं. पुं.) विष्णु, इंद्र ।

वलसेना—(सं. स्त्री.) सेनादल ।

वलस्थिति—(सं. स्त्री.) शिविर, छावनी ।

वलहर—(सं. वि.) बलनाशक ।

वलहीन—(सं. वि.) निर्बल, बलरहित ।

वला—(सं. स्त्री.) वरियारा नाम का पौधा, दक्ष प्रजापति की एक कन्या का

नाम, लक्ष्मी, पृथ्वी, नाटक में छोटी बहन के लिये संवोधन का शब्द, वह विद्या जिसको विश्वामित्र ने रामचन्द्र को सिखलाया था, (इसके प्रभाव से युद्ध में भूख-प्यास नहीं लगती) ; (अ. स्त्री.) आपत्ति, बलाय ।

वलाई—(हि. स्त्री.) देखें 'बलाय' ।

वलाक—(सं.पुं.) बक, बगला, एक पौराणिक राक्षस का नाम ।

वलाकी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का नाच, कामुकी स्त्री ; (पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।

वलाग्र—(सं. पुं.) सेना का अगला भाग, सेनापति ; (वि.) बलवान् ।

वलाट—(सं. पुं.) मुद्ग, मूंग ।

वलाढ्य—(सं.वि.) शक्तिशाली, बलवान् ।

वलाद्—(सं. अव्य.) बलपूर्वक, बल से ।

वलास्कार—(सं. पुं.) किसी की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक कोई काम करना, अत्याचार, अन्याय, किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करना ।

वलाविक—(सं. वि.) अधिक बलशाली ।

वलाव्यक्ष—(सं. पुं.) सेनापति ।

वलानुज—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण ।

वलाय—(सं. पुं.) वरुण वृक्ष ; (हि.स्त्री.) आपत्ति, विपत्ति, दुःख, कष्ट, प्रेत आदि की बाधा, बहुत कष्ट देनेवाला मनुष्य ।

वलाराति—(सं. पुं.) इंद्र, विष्णु ।

वलालक—(सं. पुं.) जल-आमला ।

वलावलेप—(सं.पुं.) बल का गर्व, अहंकार ।

वलाश—(सं. पुं.) क्षय-रोग ।

वलास—(हि. पुं.) वरुणा नाम का पेड़ ।

वलाह—(हि. पुं.) घोड़ा, अश्व, जल ।

वलाहक—(सं. पुं.) भेष, बादल, मोथा, एक दैत्य का नाम, श्रीकृष्ण के रथ के एक घोड़े का नाम, एक प्रकार का बगला, एक नाग का नाम ।

वलि—(सं. स्त्री.) भूमि का कर, उपहार, भेंट, चँवर का डंडा, पूजा-सामग्री, पंच महायज्ञों में से एक, खाने की वस्तु, अन्न, चढ़ावा, नैवेद्य, वह पशु जो किसी देवता के उद्देश्य से मारा जाय, प्रह्लाद का पोता जो दैत्यों का राजा था ; (हि. स्त्री.) सखी, छोटी बहन ; (मुहा.)

—चढ़ाना—मृत्यु को प्राप्त होना ; —चढ़ाना—

पशु को मारकर देवता को चढ़ाना ;

—जाऊँ—अपने प्राण मैं तुम पर न्योछा-

वर करता हूँ ; —जाना—न्योछावर होना ।

वलिदान—(सं.पुं.) किसी देवता के उद्देश्य से नैवेद्य आदि पूजा की सामग्री चढ़ाना,

दुर्गा, देवता आदि को चढ़ाने के लिये बकरा आदि पशु मारना ।

वलिव्वंसी—(सं. पुं.) विष्णु ।

वलिनंदन—(सं.पुं.) वलि के पुत्र वाणासुर ।

वलपशु—(सं. पुं.) वह पशु जो किसी देवता के उद्देश्य से मारा जाता है ।

वलिपुष्ट—(सं. पुं.) काक, कौआ ।

वलिप्रदान—(सं. पुं.) वलिदान ।

वलिप्रिय—(सं. पुं.) काक, कौआ ।

वलिबंधन—(सं. पुं.) विष्णु ।

वलिभ—(सं. पुं.) वृद्ध पुरुष, बूढ़ा आदमी ।

वलिभुक्—(सं. पुं.) कौवा ।

वलिभृत्—(सं. वि.) कर देनेवाला, अधीन ।

वलिभोजन, वलिभोजी—(सं.पुं.) कौवा ।

वलिमंदिर—(सं.पुं.) अघोलोक, पाताल ।

वलिया—(हि. वि.) बलवान् ।

वलिवर्द—(सं. पुं.) वृष, साँड़ ।

वलिवेशम—(सं. पुं.) पाताल ।

वलिवेशवदेव—(सं. पुं.) भूतयज्ञ, पांच महायज्ञों में से चौथा यज्ञ जिसमें गृहस्थ पकाए हुए अन्न से एक-एक ग्रास लेकर मन्त्र-पाठ करते हुए भिन्न-भिन्न स्थानों में रखता है ।

वलिज्ञ—(सं.पुं.) मछली फँसाने की बंसी ।

वलिष्ठ—(सं. पुं.) ऊँट ; (वि.) अधिक बलवान् ।

वलिस्तब्ध—(सं. पुं.) रसातल ।

वलिहन्—(सं. पुं.) विष्णु, वामनदेव ।

वलिहारना—(हि. क्रि. स.) वलिदान करना, निछावर करना ।

वलिहारी—(हि. स्त्री.) श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि के कारण अपने को निछावर करना ; (मुहा.) —जाना—निछावर होना ; —लेना—प्रेम दिखाना ।

वली—(हि. स्त्री.) चमड़े पर की झुर्रि, वह रेखा जो चमड़े के सिकुड़ने से पड़ती हो ; (सं. वि.) पराक्रमी, बलवान् ।

वलीक—(सं. पुं.) ओलती, ओरी ।

वलीन—(सं. पुं.) वृश्चिक, विच्छू ।

वलीबैठक—(हि.स्त्री.) एक प्रकार की बैठक ।

वलीमुख—(सं. पुं.) वानर, बन्दर ।

वलीयान्—(सं. पुं.) गर्दभ, गदहा ।

वलीवर्द—(सं. पुं.) वृषभ, बैल ।

वलीशक—(सं. पुं.) आमड़े का पेड़ ।

वलुआ—(हि. वि.) रेतीला, जिसमें बालू अधिक मिला हो ।

वलूच, वलूची—(हि. पुं.) वलूचिस्तान का निवासी ।

वलैया—(हि. स्त्री.) बला, बलाय ; (मुहा.) —लेना—मंगल-कामना सहित

प्यार करना, किसी के रोग, कष्ट आदि को अपने ऊपर ले लेना।

बलोत्कट-(सं. वि.) अति बलवान्।

बलकल-(हि. पुं.) देखें 'बलकल'।

बलकस-(सं. पुं.) वह तलछट जो आसव बनाने में नीचे बैठ जाती है।

बल्लभ-(हि. वि., पुं.) देखें 'बल्लभ'।

बल्लभी-(हि. स्त्री.) प्रिया।

बल्लभ-(हि. पुं.) बरछा, भाला, डंडा, साँटा, वह सुनहला या रुपहला डंडा जिसको प्रतिहारी या चोबदार राजाओं के आगे-आगे लेकर चलते हैं।

बल्लव-(सं. पुं.) चरवाहा, रसोइया, भीम का वह नाम जो उन्होंने विराट के यहाँ रसोइये के रूप में रखा था।

बल्ला-(हि. पुं.) लकड़ी का मोटा तथा लंबा लट्ठा, मोटा ढण्ड, गंद मारने का लकड़ी का डंडा, नाव खेने का डंडा या बाँस।

बल्लारी-(हि. स्त्री.) संपूर्ण जाति की एक रागिनी; (पुं.) दक्षिण का एक नगर।

बल्ली-(हि. स्त्री.) छोटा बल्ला।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

बल्ल- (सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम।

कोई वस्तु लपेटकर रखी जाय, बैठन, थैली; (मुहा.) घर बसना-गृहस्थी का बनना, कुटुम्ब सहित आनन्द से रहना; मन में बसना-याद रहना।

बसनि-(हि. स्त्री.) निवास, रहना, वास।

बसवार-(हि. पुं.) छाँक, बघार।

बसवास-(हि. पुं.) निवास, रहना, रहने का ढंग या सुविधा, ठिकाना।

बसह-(हि. पुं.) वृषभ, बैल।

बसा-(हि. स्त्री.) बसा, चरबी, बरें, मिड़।

बसात-(हि. पुं.) देखें 'बिसात'।

बसाना-(हि. क्रि. अ., स.) रहने का ठिकाना देना, ठहराना, ठिकाना, डेरा देना, बैठाना, वासना, महकाना, दुर्गन्ध करना; (मुहा.) घर बसना-गृहस्थी जमाना, कुटुम्ब सहित रहने की व्यवस्था करना।

बसिऔ (यौ) रा-(हि. पुं.) वासी भोजन, शीतलाष्टमी आदि पूजन के दिन का वासी भोजन।

बसिया-(हि. वि.) देखें 'वासी'।

बसियाना-(हि. क्रि. अ.) वासी हो जाना।

बसिण्ड-(हि. पुं.) देखें 'बसिण्ड'।

बसीकत-(हि. स्त्री.) बसने का भाव या क्रिया, रहन।

बसीकर-(हि. वि.) बश में करनेवाला।

बसीकरण-(हि. पुं.) देखें 'बशीकरण'।

बसीठ-(हि. पुं.) दूत, सन्देश ले जानेवाला मनुष्य।

बसीठी-(हि. स्त्री.) दौत्य, दूत का काम।

बसीना-(हि. पुं.) निवास, रहन।

बसु-(हि. पुं.) देखें 'बसु'।

बसुदेव-(हि. पुं.) देखें 'बसुदेव'।

बसुषा-(हि. स्त्री.) देखें 'बसुषा'।

बसुफला-(हि. पुं.) एक वर्णवत्त जिसको तारक भी कहते हैं।

बसुमती-(हि. स्त्री.) देखें 'बसुमती'।

बसुरी-(हि. स्त्री.) बाँसुरी।

बसूला-(हि. पुं.) बड़ई का लकड़ी छीलने और गढ़ने का अस्त्र।

बसूली-(हि. स्त्री.) मेमार का बसूले के आकार का छोटा अस्त्र।

बसेरा-(हि. वि.) रहनेवाला, बसनेवाला; (पुं.) यात्रियों के ठिकाने का स्थान, वह स्थान जहाँ पक्षी रात में रहते हैं, अड्डा, निवास; (मुहा.) -करना-ठिकाना, डेरा डालना; -देना-ठहराना, ठहरने का स्थान देना; -लेना-ठिकाना, ठहरना।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसेरी, बसेया-(हि. वि.) नियाती, रहनेवाला।

बसोवास-(हि. पुं.) निवासस्थान।

बसोयी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की खड़ी जो सुगन्धित और लच्छेदार होती है।

बस्त-(सं. पुं.) सूर्य, बकरा; -कर्ण-(पुं.) साल का वृक्ष, असना का पेड़; -गंधा-(स्त्री.) अजमोदा।

बस्ता-(हि. पुं.) बैठन, कागज-पत्र।

बस्ती-(हि. स्त्री.) जनपद, निवास, बहुत से घरों का समूह जिसमें लोग बसते हैं।

बस्त्र-(हि. पुं.) देखें 'बस्त्र'।

बस्साना-(हि. क्रि. अ.) दुर्गन्ध देना।

बहंगा-(हि. पुं.) बड़ी बहंगी।

बहंगी-(हि. स्त्री.) तराजू के आकार का एक ढाँचा जिसके दोनों ओर के छीकों पर बोझ डोता है, काँवर।

बहकना-(हि. क्रि. अ.) मार्ग-भ्रष्ट होना, भटकना, किसी की बात या भूलावे में आकर या कोई काम कर बैठना, किसी ओर ध्यान लग जाने पर मन शान्त होना, भद में चूर होना, आपे में न रहना, चूकना, बिना भला-बुरा विचारे कुछ कहना; (मुहा.) बहकने-बहकने बातें करना-मतबालि की तरह बकबक करना, ठींग मारना।

बहकाना-(हि. क्रि. स.) ठीक लक्ष्य या स्थान से दूसरी ओर ले जाना, फेरना, भुलावा देना, भटकाना, शान्त करना, बहलाना, बातों में फुसलाना, भरमाना, बदलचन में प्रवृत्त करना।

बहकावट-(हि. स्त्री.) बहकावट-(हि. पुं.) बहकाने की क्रिया या भाव।

बहतोल-(हि. स्त्री.) पानी बहने की नाली, बरहा।

बहत्तर-(हि. वि.) सत्तर और दो की संख्या का; (पुं.) सत्तर और दो की संख्या, ७२; -बाँ-(वि.) जिसका स्थान बहत्तर पर पड़े।

बहदुरा-(हि. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा जो चने की उपज को नष्ट करता है।

बहन-(हि. स्त्री.) देखें 'बहिन'; (पुं.) बहने की क्रिया या भाव।

बहना-(हि. क्रि. अ., स.) हट जाना, दूर होना, पानी की धारा में पड़कर जाना, ऊपर स्तंभ के चलना ना होना, गर्भ गर्भ हो जाना, उठना, चलना, धारण करना, हवा का चलना, वायुमण्ड से भिड़ना, पानी, धारा आदि का चला और चलना, बुरा या पणित होना, ठीक लक्ष्य से दूर होना, पंथ निकलना, बं-बं-द

करके या धार रूप में निकलना, मारा-मारा फिरना, सत् मार्ग से विचलित होना, गर्भपात होना, निर्वाह करना, घन डूब जाना, कुमार्गी होना; (मुहा.) वहती गंगा में हाथ धोना—ऐसी बात से लाभ उठाना जिससे अनेक लोग लाभ उठाते हों।

वहनापा—(हिं. पुं.) वहन का सम्बन्ध।
वहनी—(हिं. स्त्री.) वहति, आग, ऊख का रस रखने की ठिलिया।

वहनु—(हिं. पुं.) देखें 'वाहन', यान।
वहनेली—(हिं. स्त्री.) वह स्त्री जिसके साथ वहनापा हो।

वहनेई—(हिं. पुं.) वहन का पति।

वहनौता—(हिं. पुं.) वहिन का पुत्र, भोज।

वहनौरा—(हिं. पुं.) वहिन की समुराल।

वहम—(हिं. पुं.) शंका, भ्रम।

वहर—(हिं. पुं.) समुद्र; (अव्य.) बाहर।

वहरा—(हिं. वि., पुं.) (वह) जो कान से कम या जो बिलकुल न सुनता हो।

वहराना—(हिं. क्रि. अ.) बाहर होना, भुलावा देना, वहकाना, दुःख की बात भूलाने के लिये ऐसी बात कहना जिससे चित्त प्रसन्न हो जावे।

वहरिया—(हिं. पुं.) वल्लभ सम्प्रदाय के मंदिर के वे कर्मचारी जो मंडप के बाहर रहते हैं।

वहरियाना—(हिं. क्रि. अ., स.) बाहर निकालना, अलग करना, अलग होना, बाहर की ओर होना, नाव का किनारे से हटकर मझधार की ओर जाना या ले जाया जाना।

वहरू—(हिं. पुं.) मझोले आकार का एक वृक्ष जिसकी लकड़ी पुष्ट और सुन्दर होती है।

वहल—(सं. पुं.) नाव, ईख; (स्त्री.) वैल से लीची जानेवाली एक प्रकार की छतरी-दार गाड़ी; (वि.) पुष्ट, घना, ठोस, अधिक स्थूल, मोटा, प्रचुर।

वहलत्वच्—(सं. पुं.) सफद लोव, भोज-पत्र का वृक्ष।

वहलना—(हिं. क्रि. अ.) दुःख की बात भूलकर चित्त का दूसरी ओर लगाना, मनोरंजन होना, चित्त प्रसन्न होना।

वहला—(सं. स्त्री.) बड़ी इलायची।

वहलाना—(हिं. क्रि. स.) दुःख की बात भुलाकर मन को दूसरी ओर फेरना, भुलावा देना, बातों में लगाना, चित्त प्रसन्न करना, मनोरंजन करना।

वहलाव—(हिं. पुं.) मनोरंजन, प्रसन्नता, वहलने या वहलाने का भाव या क्रिया।

वहलिया—(हिं. पुं.) देखें 'वहेलिया'।

वहली—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की छतरी-दार वैलगाड़ी, वहल, खड़खड़िया।

वहल्ला—(हिं. पुं.) प्रसन्नता, आनन्द।

वहल्ली—(हिं. स्त्री.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति।

वहस—(अ. स्त्री.) वाद-विवाद, तर्क तथा युक्ति के साथ अपने पक्ष का समर्थन, मुकदमे में वकील द्वारा अपने पक्ष को न्याय्य साबित करना।

वहसना—(हिं. क्रि. अ.) वाद-विवाद करना, तर्क-वितर्क करना, होड़ लगाना।

वहादुर—(फा. वि.) वीर, शूर, साहसी, पराक्रमी।

वहादुराना—(फा. अव्य.) वीरतापूर्वक; (वि.) वीरतापूर्ण, वहादुरी से पूर्ण।

वहादुरी—(फा. स्त्री.) वहादुर का कार्य या गुण, वीरता, शूरता।

वहाना—(हिं. क्रि. स.) पानी आदि को नीची सतह की ओर छोड़ना, ढलकाना, ढालना, व्यर्थ व्यय करना, हवा द्वारा उड़ाया जाना, फेंकना, डालना, सस्ता बेचना, पानी की धार में डालना, लगा-तार बूंद या धार के रूप में छोड़ना, खोना, गँवाना; (फा. पुं.) झूठा या बनावटी हेतु, ढंग आदि, हीला।

वहारना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'बुहारना'।

वहारी—(हिं. स्त्री.) देख 'बुहारी'।

वहाव—(हिं. पुं.) प्रवाह, वहने की क्रिया या भाव, वहती हुई धारा, वहता हुआ जल आदि।

वहि—(सं. अव्य.) बाहर।

वहिअर—(हिं. स्त्री.) स्त्री।

वहिक्रम—(हिं. पुं.) आयु, उम्र।

वहिन—(सं. पुं.) देखें 'वहिन', नाव।

वहिन—(हिं. स्त्री.) मगिनी, पिता की बेटे।

वहिनाना—(हिं. पुं.) देखें 'वहनापा'।

वहियाँ—(हिं. स्त्री.) बाहु, बाँह।

वहिरंग—(सं. वि.) बाहरवाला, बाहरी, जो अतरंग न हो।

वहिर(रा)—(हिं. वि.) देखें 'वहरा'।

वहिरत—(हिं. अव्य.) बाहर।

वहिराना—(हिं. क्रि. अ., स.) निकाल देना, बाहर करना, बाहर होना।

वहिरगत—(सं. वि.) जो बाहर गया हो, अलग, जुदा।

वहिरगानु—(सं. अव्य.) दोनों हाथों को घुटनों के बाहर किये हुए।

वहिरद्वार—(सं. पुं.) तोरण, बाहरी द्वार।

वहिरध्वजा—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी।

वहिरनिर्गमन—(सं. पुं.) बाहर जाना।

वहिरभूमि—(सं. वि.) अलग, जो बाहर हो गया हो।

वहिरभूमि—(सं. स्त्री.) वस्ती के बाहर की भूमि।

वहिरमुख—(सं. वि.) पराङ्मुख, विमुख।

वहिरगमन—(सं. पुं.) वहिरगमन।

वहिरलंब—(सं. वि.) अधिक कोण बनाने-वाली (रेखा)।

वहिरलंपिका—(सं. स्त्री.) वह पहेली जिसके उत्तर का शब्द पहेली के शब्दों में नहीं रहता।

वहिला—(हिं. वि.) वन्ध्या, वांझ।

वहिल्क—(सं. वि.) जो बाहर हो।

वहिल्करण—(सं. पुं.) बाहर करना।

वहिल्कार—(सं. पुं.) संबंध-त्याग, (जाति से) बाहर या अलग करने का भाव, किसी वस्तु का व्यवहार-त्याग।

वहिल्कृत—(सं. वि.) त्यागा हुआ, वहिल्कार किया हुआ।

वहिल्कृति—(सं. स्त्री.) बाहर करने की क्रिया, वहिल्कार।

वहिल्प्राण—(सं. वि.) जिसके प्राण शरीर से बाहर निकल गये हों।

वही, वहीखाता—(हिं. स्त्री.) हिसाब-किताब लिखने की पुस्तक।

वहीर—(हिं. स्त्री.) जनसमूह, भीड़-भाड़, सेना के साथ चलनेवाले सेवक, दुकानदार आदि का झुंड, सेना की सामग्री; (अव्य.) बाहर।

वहु—(सं. वि.) एक से अधिक, अनेक; (स्त्री.) देखें 'वहू', वधू।

वहुकंटक—(सं. पुं.) छोटा गोखरू, जवासा, खजूर का वृक्ष, सहिजन का वृक्ष।

वहुकंद—(सं. पुं.) सूरन, ओल।

वहुक—(सं. पुं.) केकड़ा, चातक, पपीहा, छोटा तालाब; (वि.) अधिक मूल्य

देकर मूल लिया हुआ, महंगा।

वहुकन्या—(सं. स्त्री.) घृतकुमारी, धीकुआर

वहुकर—(सं. पुं.) ऊँट, झाड़ू देनेवाला; (वि.) बहुत काम करनेवाला।

वहुकरी—(सं. स्त्री.) मार्जनी, झाड़ू।

वहुक्षम—(सं. वि.) बहुत सहनेवाला।

वहुगंध—(सं. पुं.) दारचीनी, पीत चन्दन।

वहुगंधदा—(सं. स्त्री.) कस्तूरी।

वहुगंधा—(सं. स्त्री.) चम्पा, जूही, स्याह-जीरा।

वहुगुण—(सं. वि.) अनेक गुणों से युक्त; (पुं.) गन्धर्वों का एक भेद।

वहुगुना—(हिं. पुं.) चौड़े मुँह का पीतल आदि का पात्र जो अनेक कामों में लाया

बहुशत्रु—(सं.वि.) जिसके अनेक शत्रु हों।
 बहुशाखा—(सं. वि.) अनेक शाखाओं से युक्त।
 बहुशृंग—(सं. पुं.) विष्णु।
 बहुश्रुत—(सं. वि.) जिसने अनेक विद्वानों से भिन्न-भिन्न शास्त्रों की बातें सुनी हों।
 बहुसंख्यक—(सं. वि.) गिनती में बहुत या अधिक।
 बहुसार—(सं. पुं.) खदिर, खैर।
 बहुसुत—(सं.वि.) जिसकी बहुत सन्तानें हों।
 बहुस्वन—(सं. पुं.) पेचक, उल्लू पक्षी।
 बहुटा—(हि. पुं.) बाँह पर पहनने का एक आभूषण।
 बहु—(हि. स्त्री.) पुत्रवधू, पतीह, नव-विवाहिता स्त्री, दुलहिन, पत्नी, स्त्री।
 बहूदन—(सं. पुं.) प्रचुर अन्न।
 बहूपमा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का अर्थालंकार जिसमें एक उपमेय के एक ही धर्म के लिए अनेक उपमान दिये जाते हैं।
 बहूगवा—(हि. पुं.) भुजंगा पक्षी।
 बहूत—(हि. स्त्री.) ताल या गड़दे में बहकर जमी हुई मिट्टी।
 बहेचा—(हि. पुं.) घड़े का ढाँचा जो चाक पर से गड़कर उतारा जाता है।
 बहेड़ा—(हि. पुं.) अर्जुन की जाति का एक बड़ा तथा ऊँचा वृक्ष, (इसके फल औषध के काम में आते हैं।)
 बहेल—(हि. वि.) इधर-उधर मारा-मारा फिरनेवाला, व्यर्थ घूमनेवाला।
 बहेरा—(हि. पुं.) देखें 'बहेड़ा'।
 बहेला—(हि. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति।
 बहेलिया—(हि. पुं.) पशु-पक्षियों को पकड़ने या मारने का व्यवसाय करनेवाला, चिड़ी-मार, व्याध।
 बहोर—(हि. पुं.) फेरा, पलटा; (अव्य.) फिर।
 बहोरना—(हि. क्रि. स.) लौटाना।
 बहोरि—(हि. अव्य.) पुनः, फिर।
 बहूक्षर—(सं. वि.) अनेक अक्षरों का (पद)।
 बहूक्षी—(सं. वि.) बहुत भोजन करनेवाला।
 बाँ—(हि. पुं.) गाय-बैल के बोलने का शब्द, वार, वेर, दफा।
 बाँक—(हि. पुं.) बाँह पर पहनने का एक आभूषण, एक प्रकार का व्यायाम, नदी का मोड़, पैर में पहनने का एक प्रकार का चाँदी का गहना, गन्ना छीलने का एक अस्त्र, हाथ में पहनने की चौड़ी चूड़ी, एक प्रकार की छोटी टेढ़ी छुरी, वक्रता, टेढ़ापन, लोहे का शिकंजा; (वि.) टेढ़ा, वक्र, तिरछा, बाँका।
 बाँकुरा—(हि. वि.) शूरवीर, साहसी; (पुं.)

घुरे के नीचे आड़े बल लगी हुई लकड़ी जो छकड़े में जड़ी जाती है।
 बाँकड़ी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का सुनहला या रुपहला फीता जो दादले और कलावत् से बनाया जाता है।
 बाँकडोरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का शस्त्र।
 बाँकनल—(हि. पुं.) सोनारों की धातु की बनी हुई पतली टेढ़ी फूंकनी।
 बाँकना—(हि. क्रि. अ. स.) टेढ़ा करना या होना।
 बाँकपन—(हि. पुं.) तिरछापन, टेढ़ापन, छवि, शोभा, सजावट, बनाव, छैलापन।
 बाँका—(हि. वि.) वीर, बहादुर, बनाव, सुन्दर, छैल-छबीला, टेढ़ा, तिरछा; (पुं.) लोहे का बना हुआ एक टेढ़ा शस्त्र, वह वर या दुल्हा जो सुन्दर वस्त्र और अलंकारों से सजकर पालकी या घोड़े पर बैठकर बारात के साथ चलता है।
 बाँकिया—(हि. पुं.) नरसिंघा नाम का टेढ़ा बाजा जो फूँककर बजाया जाता है।
 बाँकुर, बाँकुरा—(हि. वि.) पैनी धार का, टेढ़ा, बाँका, चतुर।
 बाँगड़ू—(हि. वि.) मूख।
 बाँगर—(हि. पुं.) छकड़ा गाड़ी का लंबे बल बंधा हुआ बाँस, एक प्रकार का बँल, वह भूमि जो झील, नदी आदि की बाढ़ से नहीं डूबती।
 बाँगा—(हि. पुं.) विना ओटी हुई रूई, कपास।
 बाँगर—(हि. पुं.) पशु-पक्षियों को फँसाने का जाल, फंदा।
 बाँचना—(हि. क्रि. अ. स.) पढ़ना, बाकी वचना, छोड़ देना।
 बाँचना—(हि. क्रि. स.) असिलाषा करना, चाहना, इच्छा करना, अच्छी-अच्छी वस्तुओं को चुनना या छाँटना।
 बाँछा—(हि. स्त्री.) देखें 'बाँछा', इच्छा।
 बाँछित—(हि. वि.) देखें 'बाँछित', इच्छा किया हुआ।
 बाँछी—(हि. वि.) अभिलाषा या इच्छा करनेवाला, चाहनेवाला।
 बाँझ—(हि. स्त्री.) वन्ध्या, वह स्त्री जिसको सन्तान न होती हो, एक प्रकार का पहाड़ी वृक्ष; -पन, -पना—(पुं.) बाँझ होने का भाव, या अवस्था, वन्ध्यत्व।
 बाँट—(हि. पुं.) बाँटने की क्रिया या भाव, भाग, घास या पुआल का बना हुआ रस्ता; (मुहा.) -पड़ना—हिस्से में आना; -दूट—(स्त्री.) बटवारा।
 बाँटना—(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु के अनेक

विभाग करके अलग-अलग वितरण करना, प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा देना।
 बाँटा—(हि. पुं.) बाँटने की क्रिया भाव, विभाग।
 बाँड़—(हि. पुं.) दो नदियों के स के बीच की भूमि।
 बाँड़ा—(हि. पुं.) वह पशु जिसकी कट गई हो, वह पुरुष जिसके वा बच्चे न हों; (वि.) विना पूँछ का बाँड़ी—(हि. स्त्री.) विना पूँछ की कोई मादा पशु जिसकी पूँछ कट हो, छोटी लाठी।
 बाँड़ीबाज—(हि. पुं.) लकड़ी लड़नेवाला उपद्रवी।
 बाँदर—(हि. पुं.) देखें 'बंदर'।
 बाँदा—(हि. पुं.) किसी वृक्ष के ऊपर उगी हुई दूसरी वनस्पति।
 बाँदी—(हि. स्त्री.) दासी, लौड़ी।
 बाँदू—(हि. पुं.) बँधुवा बंदी।
 बाँध—(हि. पुं.) मिट्टी, ईट या पत्थर का बना हुआ घुस जो जलाशय किनारे पानी रोकने या एकत्र करने लिये बनाया जाता है।
 बाँधना—(हि. क्रि. स.) रस्सी, तागे आदि से किसी पदार्थ को बंधन में कसना गाँठ देकर कसना, पकड़कर बाँध करना घर आदि बनाना, ठीक करना, मिठाई, दवा आदि के चूर्ण को मुट्ठियों में दबा कर पिण्ड बनाना, पानी का बहाव रोकने के लिए बाँध बनाना, नियत करना, तंत्र-मंत्र द्वारा किसी शक्ति का अवरोध करना, प्रेमपाश में बद्ध करना, रचना के लिये सामग्रियाँ इकट्ठा करना, मन में बैठाना स्थिर करना।
 बाँधनीपौरि—(हि. पुं.) पशुओं को बाँधने का स्थान।
 बाँधनू—(हि. पुं.) पूर्व निश्चित विचार, कल्पित या मनगढ़त बात या योजना, झूठा दोष, कलंक, किसी होनेवाली बात मिथ्या अभिमान, के विषय में पहले ही से तरह-तरह के विचार कर लेना, वह बंधन जो रंगरेज लोग चुंदरी या लहरियादार रँगई में बाँधते हैं।
 बाँधव—(सं. पुं.) भाई-वन्धु, नातेदार, मित्र।
 बाँधवक—(सं. वि.) बाँधव-संबंधी।
 बाँधव्य—(सं. पुं.) नाता, रक्त-संबंध।
 बाँधी—(हि. स्त्री.) दीमक के रहने का मीठा, सर्प का बिल, बमीठा।
 बाँया—(हि. वि.) देखें 'बायाँ'।

बाँस-(हि. पुं.) तृण जाति का एक प्रसिद्ध वनस्पति जिसके कांडों में थोड़ी-थोड़ी दूर पर गाँठ होती है, रीढ़, लम्बी।
 बाँसफल-(हि. पुं.) एक वारीक धान।
 बाँसली-(हि. स्त्री.) मुरली, बाँसुरी, रुपया-पैसा रखने की एक प्रकार की पतली, जालीदार तथा लंबी थैली जो कमर में बाँधी जाती है।
 बाँसा-(हि. पुं.) बाँस की-छोटी नली जो हल के साथ बँधी रहती है जिसमें अन्न डाला जाता है जो कूँड़ में गिरता रहता है; नाक के ऊपर की हड्डी जो दोनों नथनों के बीच में होती है, एक प्रकार का छोटा पौधा।
 बाँसा-नाड़ा-(हि. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति।
 बाँसी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कोमल पतला नरकट, एक प्रकार का गेहूँ, एक प्रकार की घास।
 बाँसुरी-(हि. स्त्री.) मुख से फूँककर बजाने का एक वाजा. वंशी।
 बाँसुली-(हि. स्त्री.) देखें 'बाँसुरी', एक प्रकार की घास जो उपज को हानि पहुँचाती है; -काँद-एक प्रकार का जंगली सुरत।
 बाँह-(हि. स्त्री.) बाहु, भुजा, बल, शक्ति, भुजबल, (कुरते, अंगे, कोट आदि का) बाहु का भाग; शरण, सहारा, भरोसा, सहायक, एक प्रकार का व्यायाम जो दो आदमी मिलकर करते हैं; (मुहा.) -गहना या पकड़ना-सहायता करना, विवाह करना; -टूटना-निराश्रय होना, सहायक न रह जाना; -देना-सहायता करना; -तोड़-(पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति; -बोल-(पुं.) सहायता करने का वचन; -भरोड़-(पुं.) मल्ल-युद्ध की एक युक्ति।
 बाँही-(हि. स्त्री.) देखें 'बाँह'।
 बा-(हि. पुं.) जल, पानी।
 बाइ-(हि. स्त्री.) देखें 'बाई'।
 बाइचिरंग-(हि. पुं.) विडंगनामक ओषधि।
 बाइबिल-(अं. पुं.) ईसाइयों की धर्मपुस्तक।
 बाइसवाँ-(हि. वि.) देखें 'बाईसवाँ'।
 बाई-(हि. स्त्री.) विदोप में से वात-दोष जिसके प्रकोप से मनुष्य बीमार हो जाता है; स्त्रियों का आदरसूचक शब्द, वेश्याओं के लिए प्रयुक्त शब्द; (मुहा.) -को झोक-(स्त्री.) वायु का प्रकोप; (मुहा.) -चड़ना-गर्व से अधिक बकवक करना; मिजाज विगड़ना; -पचना-धमंड टूटना।
 बाईस-(हि. वि.) बीस और दो की संख्या

का; (पुं.) बीस और दो की संख्या, २२; -बाँ-(वि.) जो क्रम में बाईस के स्थान पर हो।
 बाईसी-(हि. स्त्री.) बाईस वस्तुओं, पद्यों आदि का समूह।
 बाउ-(हि. पुं.) वायु, अपान वायु।
 बाउर-(हि. वि.) बावला, पागल, भोला-भाला, अज्ञान, मूर्ख, मूक, गूंगा।
 बाउरी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास।
 बाउल-(हि. पुं.) एक वैष्णव संप्रदाय जिसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु कहे जाते हैं।
 बाऊ-(हि. पुं.) वायु, पवन।
 बाएँ-(हि. अव्य.) बाई ओर।
 बाकचाल-(हि. वि.) बड़ा बकवादी, अधिक बोलनेवाला।
 बाकना-(हि. क्रि. अ.) बकवक करना।
 बाकरी-(हि. स्त्री.) पाँच महीने की ब्याई हुई गाय।
 बाकल-(हि. पुं.) देखें 'बकल'।
 बाकसी-(हि. स्त्री.) जहाज के पाल को एक ओर से दूसरी ओर करना।
 बाका-(हि. पुं.) चाक, वाणी।
 बाकी-(अ. वि.) बचा हुआ, अवशिष्ट, न चुकाया हुआ; (स्त्री.) गणित में घटाने की क्रिया; बचा हुआ अंश।
 बाकुल-(हि. पुं.) देखें 'बकल'।
 बाखरि-(हि. स्त्री.) देखें 'बखरी'।
 बागडोर-(हि. स्त्री.) घोड़े की लगाम में बाँधने की रस्सी, लगाम।
 बागना-(हि. क्रि. अ.) चलना-फिरना, घूमना, टहलना, बोलना।
 बागर-(हि. पुं.) नदी के किनारे की वह ऊँची भूमि जहाँ तक बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुँचता।
 बागल-(हि. पुं.) बक, बगला।
 बागुर-(हि. पुं.) पशु या पक्षी फँसाने का जाल।
 बागूसरी-(हि. स्त्री.) सरस्वती, संपूर्ण जाति की एक रागिनी।
 बाघंवर-(हि. पुं.) बाघ की खाल जो विछाने के काम में आती है, एक प्रकार का रोयेंदार कंबल।
 बाघ-(हि. पुं.) सिंह, शेर।
 बाघा-(हि. पुं.) चीपायों का पेट फूलने का एक रोग।
 बाघी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की गिलटी जो बहुधा गरमी के रोगियों की जाँघ और पेड़ के जोड़ में निकलती है।
 बाचना-(हि. क्रि. त.) सुरक्षित रखना, बचाना।
 बाचा-(हि. स्त्री.) बोलने की शक्ति,

वार्तालाप, वातचीत; -बंध-(वि.) जिसने किसी प्रकार की प्रतिज्ञा की हो।
 बाछा-(हि. पुं.) गाय का बच्चा, बछवा, बच्चा, लड़का।
 बाज-(फा. पुं.) एक प्रसिद्ध शिकारी चिड़िया; (वि.) वंचित; (पुं.) समस्त पदों में-करनेवाला, रखनेवाला आदि अर्थों में प्रयुक्त; (हि. पुं.) घोड़ा, वाजा, सितार में का पक्के लोहे का तार, बजाने की रीति या ढंग, ताने के सूत में डालने की लकड़ी।
 बाजड़ा-(हि. पुं.) देखें 'बाजरा'।
 बाजन-(हि. पुं.) देखें 'बाजा'।
 बाजना-(हि. क्रि. अ.) बाजे आदि का बजना, प्रसिद्ध होना, पुकारा जाना, लड़ना, भिड़ना, सामने पहुँच जाना, चोट लगना।
 बाजरा-(हि. पुं.) एक प्रकार का पीघा जिसके बालों में हरे रंग के छोटे-छोटे दाने लगते हैं, बाजड़ा।
 बाजहर-(हि. पुं.) जहरमोहरा।
 बाजा-(हि. पुं.) बाध, बजाने का कोई यन्त्र जिसमें से राग-रागिनी निकाली जाती है अथवा जो ताल देने के लिये बजाया जाता है; -गाजा-(पुं.) अनेक प्रकार के बाजों का समूह।
 बाजार-(फा. पुं.) दुकानों का समूह जहाँ आवश्यक वस्तुएँ विकती हैं, हाट, मंडी, भाव, वस्तुओं की दर, (मुहा.) -करना-बाजार से आवश्यक वस्तुएँ खरीदना; -गर्म होना-बाजार में खूब खरीद-विक्री होना; -गिरना-किसी वस्तु का भाव गिरना; -मंदा होना-देखें 'बाजार गिरना'।
 बाजारी-(फा. वि.) बाजार का, अशिष्ट।
 बाजारू-(हि. वि.) हाट-संबंधी, बाजारी।
 बाजि-(हि. पुं.) घोड़ा, पक्षी, वाण।
 बाजी-(हि. पुं.) घोड़ा, बजनिया; (फा. स्त्री.) तमाशा, दाँव, खेल।
 बाजू-(फा. पुं.) बाँह, भुजा, दाहिना या बायाँ अलंग, पक्ष, डंता; -बंद-(पुं.) बाँह में पहनने का एक आभूषण।
 बाजूबीर-(हि. पुं.) बाजूबंद।
 बाझ-(हि. अव्य.) विना।
 बाझन-(हि. स्त्री.) बझने या फँसने का भाव, उलझन, फँसाव, बखेड़ा, संसट।
 बाझना-(हि. क्रि. अ.) बझना।
 वाट-(हि. पुं.) मार्ग, पत्थर आदि का वह टुकड़ा जो तौलने के काम में आता है, बटररा, पत्थर का वह टुकड़ा जिससे सिल पर कोई वस्तु पीसी जाती है।

(स्त्री.) ऐंठन, बल; (मुहा.)—करना—मार्ग बनाना; रास्ता खोलना;—देखना,—जोहना—आसरा देखना;—परना—कष्ट देना, पीछे पड़ना, डाका पड़ना;—पारना—डाका डालना ।

वांटना—(हि. क्रि. स.) चूर्ण करना, सिल पर बट्टे से कोई वस्तु पीसना ।

वांटली—(हि. स्त्री.) जहाज पर का पाल तानने का रस्सा ।

वाटिका—(सं.स्त्री.) उपवन, उद्यान, बगीचा, फूलवारी, गद्य-काव्य का एक भेद ।

वाटी—(हि. स्त्री.) गोली, पिण्ड, अंगारों या उपलों पर सेंकी हुई गोली या पेड़े के आकार की रोटी, लिट्टी, चौड़े मुँह का कटोरा ।

वाड़व—(सं. पुं.) घोड़ियों का समूह, बड़वानल, ब्राह्मण ।

वाड़वाग्नि—(सं. स्त्री.) बड़वानल ।

वाड़व्य—(सं. पुं.) ब्राह्मणों का समूह ।

वाड़स—(सं. पुं.) मत्स्य, मछली ।

वाड़ा—(हि. पुं.) वह भूमि जो चारों ओर से घिरी हुई हो, पशु-शाला ।

वाड़ी—(हि. स्त्री.) वाटिका, वारी, फूलवारी ।

वाड़—(हि. स्त्री.) बढ़ने की क्रिया या भाव, बढ़ती, अधिक वर्षा के कारण नदी आदि के जल का बहुत अधिक बढ़ना, बंदूक, तोप आदि का निरन्तर छूटना, व्यापार में होनेवाला लाम, तलवार, छुरी आदि की धार, सान; (मुहा.)—दगना—तोपों का निरन्तर छूटना ।

वाड़कड़—(हि. स्त्री.) खड्ग, तलवार ।

वाड़ना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'बढ़ना' ।

वाड़ि—(हि. स्त्री.) देखें 'बाढ़' ।

वाड़ी—(हि. स्त्री.) बढ़ाव, अविकता, वृद्धि, लाभ—अन्न उधार देने पर व्याज रूप में मिलनेवाला अन्न ।

वाड़ीवान—(हि. पुं.) छुरी, कैची आदि पर सान चढ़ानेवाला ।

वाण—(सं. पुं.) तीर, सायक, अग्नि, गाय का थन, सिर का अगला भाग, सरपत, लक्ष्य, निशाना, पाँच की संख्या, राजा बलि के सब से बड़े पुत्र का नाम ।

वाणधि—(सं. पुं.) तूण, तरकश ।

वाणपति—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

वाणपथ—(सं. पुं.) उतनी दूरी जहाँ तक वाण जा सके ।

वाणलिंग—(सं. पुं.) स्फटिक का शिव-लिंग जो नर्मदा नदी में मिलता है ।

वाणविद्या—(सं. स्त्री.) वाण चलाने की विद्या ।

वाणारि—(सं. पुं.) वाणासुर के शत्रु, विष्णु ।

वाणासुर—(सं. पुं.) राजा बलि के सौ पुत्रों में से सब से बड़े पुत्र का नाम ।

वाणिज्य—(सं. पुं.) वाणिज्य, व्यापार ।

वात—(हि. स्त्री.) वचन, प्रसंग, फैंली हुई चर्चा, (योग्यता, गुण आदि के संबंध में) कथन, उपदेश, सीख, मर्म, रहस्य, प्रतिज्ञा, मान-मर्यादा, विश्वास, कामना, इच्छा, ढंग, रीति, व्यवहार, तत्व, वस्तु, प्रभाव, स्वभाव, गुण, प्रकृति, संबंध, मूल्य, तात्पर्य, अभिप्राय, कर्तव्य, गुप्त-वार्ता, प्रश्न, प्रशंसा का विषय, चमत्कारपूर्ण वार्ता, विशेषता, घोखा देने के लिये कहे हुए शब्द, वनावटी कथन, बहाना, सन्देश, व्यवस्था, परस्पर वार्तालाप, घटनेवाली स्थिति, सार्थक शब्द वाक्य, उचित उपाय; (मुहा.)—उठाना—चर्चा या जिक्र करना;—कहते—(अव्य.) तुरंत;—काटना—

किसी के बोलते समय बीच में बोल उठना;—का धनी—अपनी बात पर अडिग रहनेवाला;—का बतंगड़ करना—बक-वाद करके बखेड़ा खड़ा करना;—को बात में—तुरंत;—खाली जाना—प्रार्थना निष्फल होना;—खोना—साख या प्रतिष्ठा विगड़ना;—छिड़ना—प्रसंग उठना;—जाना—विश्वास उठ जाना;—टलना—कहना व्यर्थ होना;—टालना—किसी की प्रार्थना को अस्वीकार करना;—ठहरना—विवाह-संबंध पक्का होना;—न पूछना—बात न करना;—पक्की करना—वादा पक्का करना;—पर जाना—बातों पर ध्यान देना;—बढ़ना—किसी घटना का भयंकर रूप धारण करना;—बनना—प्रतिष्ठा कायम रहना;—बनाना—बहाना करना;—बात में—(अव्य.) तुरंत, हर विषय में;—बिगड़ना—मर्यादा नष्ट होना;—रखना—किसी की प्रार्थना को मान लेना; अपना वचन पूरा करना; बातों में आना—किसी के बहकावे में आना; बातों में उड़ाना—किसी बात को हँसी में उड़ा देना; बातों में लगाना—वात-चीत में लीन करना ।

वातकंडक—(हि. पुं.) वायु का एक रोग ।

वातचीत—(हि. स्त्री.) दो अथवा अनेक मनुष्यों का परस्पर बातें करना, वार्तालाप ।

वातप—(हि. पुं.) हिरन ।

वातफरोश—(हि. पुं.) इधर-उधर की झूठी बातें करनेवाला ।

वातिगन—(सं. पुं.) बैगन ।

वाती—(हि. स्त्री.) देखें 'वत्ती' ।

वातुल—(हि. वि.) पागल, सनकी, बौड़हा ।

वातुनिया, वातुनी—(हि. वि.) बहूत बोलनेवाला, बकवादी ।

वाथ—(हि. पुं.) अंक, गोद ।

वाथू—(हि. पुं.) वथुआ का साग ।

वाद—(हि. पुं.) वाद, तर्क-वितर्क, प्रतिज्ञा, झगड़ा, विवाद, झंझट; (अ. अव्य.) पीछे, अनंतर;—को,—से—पीछे ।

वादकाकुल—(सं. पुं.) संगीत में एक ताल का नाम ।

वादना—(हि. क्रि. अ.) बकवाद करना ।

वादरंग—(सं. पुं.) पीपल का वृक्ष ।

वाटर—(सं. पुं.) कपास का पीधा, रेशम; (वि.) आनन्दित, प्रसन्न; (हि. पुं.) वादल, मेघ ।

वादरा—(सं. स्त्री.) कपास का पीधा, सूत, रेशम ।

वादरायण—(सं. पुं.) वेदव्यास का नाम ।

वाटरिया—(हि. स्त्री.) देखें 'वदली' ।

वादल—(हि. पुं.) वह भाप जो पृथ्वी पर के जलराशि से उठकर आकाश में जाती है और फिर पानी के रूप में पृथ्वी पर बूँद-बूँद करके गिरती है, मेघ; (मुहा.)—उठना—आकाश में वादलों का फैलना या छा जाना;—गरजना—मेघों का गड़गड़ शब्द करना;—घिरना—मेघों का चारों ओर छा जाना;—छटना—मेघों का टुकड़े-टुकड़े होकर बिखरना ।

वादला—(हि. पुं.) सोने या चाँदी का महीन और चिपटा तार जो कलावतु बनाने तथा गोटा बुनने के काम में आता है ।

वादशाह—(फा. पुं.) राजा, सम्राट, सुलतान, प्रकृति से स्वेच्छाचारी, शतरंज का मुख्य मोहरा, ताश का एक पत्ता ।

वादशाहत—(फा. स्त्री.) बादशाह का पद या गौरव, राजत्व ।

वादशाही—(फा. वि.) बादशाह का, बादशाह से संबद्ध; (स्त्री.) विपुल सुख, समृद्धि और एश्वर्य ।

वादहवाई—(हि. अव्य.) व्यर्थ ।

वादाम—(फा. पुं.) जामुन आदि वृक्षों की तरह का एक पेड़ जिसका तना मोटा होता है (इसका फल मेंवों में गिना जाता है) ।

वादामी—(फा. वि.) वादाम के छिलके के रंग का, कुछ पीलापन लिय लाल रंग का, वादाम के आकार का, अण्डाकार; (स्त्री.) गहना रखने की एक प्रकार की डिविया;—

वातिगन—(सं. पुं.) बैगन ।

वाती—(हि. स्त्री.) देखें 'वत्ती' ।

वातुल—(हि. वि.) पागल, सनकी, बौड़हा ।

वातुनिया, वातुनी—(हि. वि.) बहूत बोलनेवाला, बकवादी ।

वाथ—(हि. पुं.) अंक, गोद ।

वाथू—(हि. पुं.) वथुआ का साग ।

वाद—(हि. पुं.) वाद, तर्क-वितर्क, प्रतिज्ञा, झगड़ा, विवाद, झंझट; (अ. अव्य.) पीछे, अनंतर;—को,—से—पीछे ।

वादकाकुल—(सं. पुं.) संगीत में एक ताल का नाम ।

वादना—(हि. क्रि. अ.) बकवाद करना ।

वादरंग—(सं. पुं.) पीपल का वृक्ष ।

वाटर—(सं. पुं.) कपास का पीधा, रेशम; (वि.) आनन्दित, प्रसन्न; (हि. पुं.) वादल, मेघ ।

वादरा—(सं. स्त्री.) कपास का पीधा, सूत, रेशम ।

वादरायण—(सं. पुं.) वेदव्यास का नाम ।

वाटरिया—(हि. स्त्री.) देखें 'वदली' ।

वादल—(हि. पुं.) वह भाप जो पृथ्वी पर के जलराशि से उठकर आकाश में जाती है और फिर पानी के रूप में पृथ्वी पर बूँद-बूँद करके गिरती है, मेघ; (मुहा.)—उठना—आकाश में वादलों का फैलना या छा जाना;—गरजना—मेघों का गड़गड़ शब्द करना;—घिरना—मेघों का चारों ओर छा जाना;—छटना—मेघों का टुकड़े-टुकड़े होकर बिखरना ।

वादला—(हि. पुं.) सोने या चाँदी का महीन और चिपटा तार जो कलावतु बनाने तथा गोटा बुनने के काम में आता है ।

वादशाह—(फा. पुं.) राजा, सम्राट, सुलतान, प्रकृति से स्वेच्छाचारी, शतरंज का मुख्य मोहरा, ताश का एक पत्ता ।

वादशाहत—(फा. स्त्री.) बादशाह का पद या गौरव, राजत्व ।

वादशाही—(फा. वि.) बादशाह का, बादशाह से संबद्ध; (स्त्री.) विपुल सुख, समृद्धि और एश्वर्य ।

वादहवाई—(हि. अव्य.) व्यर्थ ।

वादाम—(फा. पुं.) जामुन आदि वृक्षों की तरह का एक पेड़ जिसका तना मोटा होता है (इसका फल मेंवों में गिना जाता है) ।

वादामी—(फा. वि.) वादाम के छिलके के रंग का, कुछ पीलापन लिय लाल रंग का, वादाम के आकार का, अण्डाकार; (स्त्री.) गहना रखने की एक प्रकार की डिविया;—

वादामी—(फा. वि.) वादाम के छिलके के रंग का, कुछ पीलापन लिय लाल रंग का, वादाम के आकार का, अण्डाकार; (स्त्री.) गहना रखने की एक प्रकार की डिविया;—

(पुं.) एक प्रकार का घान, बादामी रंग का घोड़ा ।
वादि-(हि. अव्य.) व्यर्थ ।
वाद्या-(हि. पुं.) पेच बनाने का लोहारों का एक अस्त्र ।
वादी-(हि. पुं.) किसी के विरुद्ध अभियोग चलानेवाला, वादी, शत्रु, प्रतिद्वंद्वी, लोहारों का सिकली करने का एक अस्त्र; (फा. वि.) वायु-विकार-संबंधी; (स्त्री.) वायु-विकार।
वाडुना-(हि. पुं.) घेवर नाम की मिठाई बनाने का एक उपकरण ।
वाडुर-(हि. पुं.) चमगादड़ ।
बाध-(सं. पुं.) प्रतिबन्ध, रुकावट, उत्पात, उपद्रव, कष्ट, पीड़ा, कठिनाता, अर्थ की असंगति, वह पक्ष जिसमें साध्य का अभाव-सा हो; (हि. पुं.) मूँजकी पतली रस्सी।
बाधक-(सं. वि.) प्रतिबन्धक, बाधाजनक, दुःखदायी, रुकावट करनेवाला; -ता- (स्त्री.) बाधक होने का भाव या धर्म, बाधा।
बाधन-(सं. पुं.) कष्ट, पीड़ा, प्रतिबन्ध, बाधा ।
बाधना-(हि. क्रि. स.) बाधा डालना, रोकना, विघ्न करना, अड़चन डालना ।
बाधा-(सं. स्त्री.) कष्ट, पीड़ा, विघ्न, रुकावट, भय, डर, निषेध, मनाही, संकट, अड़चन ।
बाधित-(सं. वि.) रोका हुआ, जिसके करने में रुकावट हो, प्रभावहीन, प्रस्त, असंगत, जिसको सिद्ध करने में बाधा हो ।
बाधिय-(सं. पुं.) बहरापन ।
बाध्य-(सं. वि.) विवश, रोका जानेवाला; -ता-(स्त्री.) रोक, प्रतिबंध, विवशता ।
वान-(हि. पुं.) वाण, तीर, एक प्रकार का वृक्ष, एक प्रकार की अग्नि-झीड़ा जो तीर के आकार की होती है, घुनकी की ताँत पर मारने का डंडा, समुद्र या नदी की ऊँची लहर, अभ्यास, वनावट, कान्ति ।
वानइत-(हि. वि.) वाना चलाने या फेरने-वाला, वाण चलानेवाला, योद्धा, वीर ।
वानक-(हि. स्त्री.) वाना, मेष, एक प्रकार का रेशम ।
वानगी-(हि. स्त्री.) नमूना, किसी माल का वह अंश जो ग्राहक को देखने के लिये दिया जाता है ।
वानर-(हि. पुं.) वंदर ।
वानवे-(हि. वि.) नव्वे और दो की संख्या का; (पुं.) नव्वे और दो की संख्या, ९२ ।
वाना-(हि. पुं.) वस्त्र, पहिनावा, मेस, चाल, रीति, भाले के आकार का एक शस्त्र, दोनों ओर धारवाली तलवार के आकार का एक

लंबा शस्त्र, एक प्रकार का सूत जिससे गुड्डी उड़ाई जाती है, खेत की पहली वार की जुताई, कपड़े की वुनावट में वे तागे जो ताने में भरे जाते हैं, वुनावट में आड़े बल के तागे, स्वभाव, वुनाई; (क्रि. स.) मुँह, छेद आदि को बढ़ाना या फैलाना ।
वानात-(हि. स्त्री.) देखें 'वनात' ।
वानावरी-(हि. स्त्री.) वाण चलाने की विद्या ।
वानि-(हि. स्त्री.) वनावट, सजघज, अभ्यास, चमक, कान्ति, वाणी, वचन ।
वानिक-(हि. स्त्री.) वेश, शृंगार, सजघज ।
वानिन-(हि. स्त्री.) वनियाइन, वनिये की स्त्री ।
वानिया-(हि. पुं.) वनिया, व्यापारी ।
वानी-(हि. स्त्री.) मुख से निकला हुआ शब्द, वचन, प्रतिज्ञा, सरस्वती, आमा, चमक, साधु-महात्मा का उपदेश, वाणिज्य, एक प्रकार की पीली मिट्टी, गोला, वाना नामक हथियार; (अ. पुं.) आरंभ करनेवाला, चलानेवाला ।
वानंत-(हि. पुं.) वाण चलानेवाला, वाना फेरनेवाला, योद्धा, सैनिक ।
वाप-(हि. पुं.) पिता, जनक; -दादा-(पुं.) पूर्व-पुरुष, पुरखा; -मां-(पुं.) पालन या रक्षा करनेवाला ।
वापा-(हि. पुं.) देख 'वप्पा' ।
वापिका-(हि. स्त्री.) देखें 'वापिका' ।
वापी-(हि. स्त्री.) देखें 'वापी', वावली ।
वापुरा-(हि. पुं.) तुच्छ, दीन, बेचारा ।
वापू-(हि. पुं.) वाप ।
वाफ-(हि. स्त्री.) देखें 'भाप' ।
वावची-(हि. स्त्री.) देखें 'बकुची' ।
वावरी-(हि. स्त्री.) सिर पर के लंबे बाल ।
वावा-(हि. पुं.) पिता, वाप, पिता-मह, दादा, वृद्ध पुरुष, एक आदर-सूचक शब्द जो साधु-संन्यासियों के लिये प्रयुक्त होता है, लड़कों के लिये प्यार का शब्द ।
वाबी-(हि. स्त्री.) संन्यासिन, कन्या के लिये प्यार का शब्द ।
वावुना-(हि. पुं.) पीले रंग की एक चिड़िया ।
वावुल-(हि. पुं.) वाप ।
वावू-(हि. पुं.) एक आदरसूचक शब्द, भला आदमी, पिता के लिये संबोधन का शब्द, राजा के बंधु-बांधवों के लिये प्रयुक्त शब्द ।
वावड़ा-(हि. पुं.) वावू के लिये घृणा-सूचक शब्द ।
वांभन-(हि. पुं.) ब्राह्मण, भूमिहार ।

वाभ-(हि. वि.) देखें 'वाम'; (हि. स्त्री.) स्त्रियों का कान में पहनने का एक गहना ।
वामा-(हि. स्त्री.) देखें 'वामा' ।
वायें-(हि. वि.) वायाँ, खाली, चूका हुआ, लक्ष्य पर न बैठा हुआ; (मुहा.) -देना-तरह देना, छोड़ना ।
वाय-(हि. स्त्री.) वायु, हवा, वात का प्रकोप, वावली, बेहर ।
वायक-(हि. पुं.) दूत, पढ़नेवाला, वतलानेवाला ।
वायन-(हि. पुं.) वह मिठाई, पकवान आदि जो उत्सव आदि के उपलक्ष्य में लोग अपने इष्ट-मित्रों के घर भेजते हैं, मँट, उपहार; (मुहा.) -देना-छेड़-छाड़ करना ।
वायविडंग-(हि. पुं.) पहाड़ पर होने-वाली एक लता जिसमें छोटे-छोटे मटर के बराबर गोल फल गुच्छों के लगते हैं जो आयुर्वेदिक औषधों में काम में आते हैं ।
वायविल-(अं. पुं.) देखें 'वाइविल' ।
वायवी-(हि. वि.) अपरिचित, अजनबी, वाहरी, नया आया हुआ ।
वायव्य-(हि. वि. पुं.) देखें 'वायव्य' ।
वायरा-(हि. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
वायल-(हि. वि.) जो दाँव खाली जाय ।
वायला-(हि. वि.) वायु का विकार बढ़ानेवाला ।
वायस-(हि. पुं.) देखें 'वायस' ।
वायाँ-(हि. वि.) पूर्वाभिमुख खड़े होने पर किसी मनुष्य का उत्तर की ओर का पार्श्व, प्रतिकूल, विरुद्ध; (पुं.) वायें हाथ से बजाने का तबला; (मुहा.) -देना-जान-बूझकर कतरा जाना ।
वायें-(हि. अव्य.) विपरीत, विरुद्ध, वाईओर; (मुहा.) -होना-खिन्न होना ।
वारंवार-(हि. अव्य.) पुनः-पुनः, वार-वार ।
वार-(हि. पुं.) द्वार, धरवार, आश्रय-स्थान, घेरा, रोक, किसी शस्त्र की धार, नाव, थाली आदि का किनारा, देखें 'वाल'; (स्त्री.) काल, समय, अतिकाल, देर, दफा, -वार-(अव्य.) फिर-फिर ।
वारक-(हि. स्त्री.) सैनिकों के रहने के लिये बना हुआ पक्का घर, छावनी ।
वारकीर-(सं. पुं.) जोंक ।
वारगह-(हि. स्त्री.) डेवड़ी, डेरा, तंबू ।
वारजा-(हि. पुं.) कोठा, अटारी, वरामदा, मुख्य द्वार के ऊपर पाटकर बनाया हुआ ओसारा, घर के आगे का दालन ।

वारतुंडी—(हि. स्त्री.) आल का पेड़ ।
 वारन—(हि. पुं.) देखें 'वारण' ।
 वारना—(हि. क्रि. स.) रोकना, मना करना, प्रज्वलित करना, जलाना, जोंधरी, वाजरे आदि के दाने अलगाना ।
 वारवधू, वारवधूटी—(हि. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
 वारमुखी—(हि. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
 वारवा—(हि. स्त्री.) एक रागिनी कानाम ।
 वारह—(हि. वि.) दस और दो की संख्या का; (पुं.) दस और दो की संख्या, १२; (मुहा.)—वाट करना—तितर-वितर करना, नष्ट करना ।
 वारह-खड़ी—(हि. स्त्री.) वर्णमाला-ज्ञानका वह अंग जिसमें प्रत्येक व्यंजन में अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अः-इन वारह स्वरों की मात्राएँ लगाकर उच्चारण बताया जाता है ।
 वारहदरी—(हि. स्त्री.) चारों ओर से खुला हवादार कमरा जिसमें वारह द्वार होते हैं ।
 वारह-पत्थर—(हि. पुं.) सीमा, सिवान, छावनी ।
 वारहवान—(हि. पुं.) एक प्रकार का उत्तम सोना ।
 वारहवाना—(हि. वि.) चमकता हुआ, खरा, चोखा ।
 वारहवानी—(हि. वि.) सूर्य के समान चमकनेवाला, पापरहित निर्दोष, खरा, चोखा, सच्चा, पक्का; (स्त्री.) सूर्य के समान चमक ।
 वारहमासा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पद्य या गीत जिसमें किसी विरही या विरहिणी के मुख से वारहों महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन कराया जाता है ।
 वारहमासी—(हि. वि.) वारहों महीने होनेवाला, सब ऋतुओं में फलने-फूलने-वाला ।
 वारहवाँ—(हि. वि.) जो वारहके स्थान में हो ।
 वारहसंगा(घा)—(हि. पुं.) हरिन की जाति का एक चीपाया जिसके सींगों में कई गाँवाँ निकली रहती है ।
 वारहों—(हि. वि.) देखें 'वारहवाँ' ।
 वारहों(हों)—(हि. स्त्री.) वच्चे के जन्म से वारहवाँ दिन, जब उत्सव आदि किये जाते हैं, किसी मनुष्य के मरने के दिन से वारहवाँ दिन ।
 वारा—(हि. वि.) वाल्यावस्था का, जो सयाना न हो; (पुं.) बेलने के सिरे

पर लगाई हुई लोहे की कँगनी, महीन तार खींचने की जंती, वह मनुष्य जो कुएँ पर रहकर मोट का पानी उँड़ेलता या गिराता है ।
 वारात—(हि. स्त्री.) वरयात्रा, वह समाज जो वर के साथ उसको व्याहने के लिये सजधज करके वधू के घर जाता है ।
 वारादरी—(हि. स्त्री.) देखें 'वारहदरी' ।
 वारिगर—(हि. पुं.) हथियारों पर सान रखनेवाला ।
 वारिघर—(हि. पुं.) मेघ, बादल, एक वर्णवृत्त का नाम ।
 वारिधि—(हि. पुं.) देखें 'वारिधि' ।
 वारिवाह—(हि. पुं.) बादल ।
 वारी—(हि. स्त्री.) तट, किनारा, धार, छोर, (वगीचे, खेत आदि के चारों ओर बना हुआ) घेरा, किसी पात्र की कोर, नवयौवना, किशोरी स्त्री, कन्या, लड़की, अबसर, पारी, जहाजों के ठहरने का स्थान, बंदरगाह, घर, बयारी, खिड़की, झरोखा, वह स्थान जहाँ वृक्ष लगाये गये हों; (पुं.) एक जाति जो पत्तल बनाने का काम करती है; (मुहा.)—बँधना—अलग-अलग समय निश्चित होना;—वारी से—एक-एक करके ।
 वारीक—(फा. वि.) महीन, बहुत पतला, सूक्ष्म;—बीन—(वि.) सूक्ष्मदर्शी;—बीनी—(स्त्री.) सूक्ष्मदर्शिता, वारीकी ।
 वारीकी—(फा. स्त्री.) वारीकपन, सूक्ष्मता ।
 वारीस—(हि. पुं.) समुद्र ।
 वारुणी—(हि. स्त्री.) देखें 'वारुणी' ।
 वारू—(हि. पुं.) देखें 'वारू' ।
 वारूद—(फा. स्त्री.) सोरा, गंधक और कोयले के वारीक चूर्ण का मिश्रण, जो बंदूक, आतिशवाजी आदि में प्रयुक्त होता है;—खाना—(पुं.) गोली-वारूद का मंडार ।
 वारूदानी—(हि. स्त्री.) देखें 'वारूदानी' ।
 वारीठा—(हि. पुं.) विवाह की एक रीति जो वर के कन्याके द्वारपर आनेपर की जाती है ।
 वारहस्पत(त्य)—(सं. वि.) वृहस्पति-संबंधी ।
 वाल—(सं. पुं.) बालक, लड़का, किसी पशु का वच्चा, शावक, लोम, केश, कुन्तल, घोड़े का वच्चा, बछेड़ा, हाथी का वच्चा, नारियल, दूध; (वि.) मूख, वह जो पूरी वाढ़ पर न पहुँचा हो, जिसको उगे हुए थोड़े दिन हुए हों; (हि. स्त्री.) अनाजों के पौवों के ढँठल का अग्रभाग जिसमें दानों के गुच्छे लगे रहते हैं; (मुहा.)—पकना—वृद्ध होना, अनुभव प्राप्त करना;

—वाँकान होना—किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचना;—बाल वचना—किसी आपत्ति में पड़ते-पड़ते बच जाना ।
 बालक—(सं. पुं.) पुत्र, शिशु, लड़का, थोड़ी उम्र का वच्चा, अबोध या अनजान मनुष्य, हाथी या घोड़े का वच्चा, केश, बाल ।
 बालकता—(हि. स्त्री.) लड़कपन ।
 बालकताई—(हि. स्त्री.) वाल्यावस्था, लड़कपन ।
 बालकपन—(हि. पुं.) बालक होने का भाव, लड़कपन ।
 बालकप्रिया—(सं. स्त्री.) इन्द्रवारुणी, केला ।
 बालकांड—(सं. पुं.) रामायण का वह भाग जिसमें रामचन्द्र के जन्म तथा बाललीला आदि का वर्णन है ।
 बालकाल—(सं. पुं.) वाल्यावस्था ।
 बालकी—(हि. स्त्री.) कन्या, पुत्री ।
 बालकृष्ण—(सं. पुं.) वाल्यावस्था के श्रीकृष्ण ।
 बालकेलि—(सं. स्त्री.) लड़कों का खेल, खिलवाड़, अति साधारण या तुच्छ काम ।
 बालकेशी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की घास ।
 बालक्रीडन—(सं. पुं.) लड़कों का खेल ।
 बालक्रीड़ा—(सं. स्त्री.) लड़कों का खेल ।
 बालखिल्य—(सं. पुं.) पुराण के अनुसार ब्रह्मा के रोमरूप से उत्पन्न साठ हजार ऋषि जो डील-डौल में अँगूठे के बराबर थे ।
 बालखोरा—(हि. पुं.) सिर के बाल झड़ने का रोग ।
 बालगभिणी—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसने पहले-पहल गर्भ-धारण किया हो ।
 बालगोपाल—(सं. पुं.) बालकृष्ण, परिवार के बाल-बच्चे ।
 बालग्रह—(सं. पुं.) बालकों को सताने-वाले ग्रह, (अरिष्टानुसार ये बालकों को सताने हैं ।)
 बालचर—(सं. पुं.) वह संस्था जो विद्यार्थियों में लोकसेवा, स्वावलंबन आदि वृत्तियों का विकास करने के लिए बनी है, इसका सदस्य ।
 बालचरित—(सं. पुं.) लड़कों का खिलवाड़ ।
 बालचर्य—(सं. पुं.) कार्तिकेय, बालकों का चरित्र ।
 बालछड़—(हि. स्त्री.) जटामासी ।
 बालजीवन—(सं. पुं.) दुग्ध, दूध ।
 बालटी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की डोलची जिसका नीचे का घेरा सँकरा तथा ऊपर का चौड़ा होता है ।
 बालतंत्र—(सं. पुं.) बालकों के लालन-

पालन की विद्या, कुमार-मृत्या ।
बालतनय—(सं. पुं.) बालक, पुत्र ।
बालतृण—(सं.पुं.) नरम तृण, हरी घास ।
बालतोड़—(हिं. पुं.) देखें 'बरतोर' ।
बालद—(हिं. पुं.) वैल ।
बालधि—(सं. स्त्री.) पूँछ ।
बालना—(हिं. क्रि. स.) प्रज्वलित करना, जलाना ।
बालपत्र—(सं. पुं.) नया पत्ता, कोपल ।
बालपन—(हिं. पुं.) बाल्यावस्था, लड़कपन ।
बालपेर्णी—(सं. स्त्री.) मेथिका, मेथी ।
बालपुष्पी—(सं. स्त्री.) यूथिका, जूही ।
बालबच्चे—(हिं. पुं.) सन्तान ।
बालबुद्धि—(सं. स्त्री.) बालकों के समान बुद्धि, नासमझी ।
बालबोध—(सं. पुं.) बच्चों की पुस्तक; (वि.) समझने में सरल, सहज ।
बालबोधक—(सं. वि.) बहुत सहज ।
बालब्रह्मचारी—(सं. पुं.) वह जिसने बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य-व्रत धारण किया हो ।
बालभाव—(सं. पुं.) लड़कपन ।
बालभोग—(सं. पुं.) वह नैवेद्य जो देवताओं के आगे प्रातःकाल रखा जाता है, जलपान, कलेवा ।
बालम—(हिं. पुं.) पति, स्वामी, प्रेमी ।
बालमखीरा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बड़ा खीरा ।
बालमुकुन्द—(हिं. पुं.) बाल्यावस्था के श्रीकृष्णजी ।
बालमूलक—(सं. पुं.) छोटी कच्ची मूली ।
बालरोग—(सं. पुं.) बालकों की व्याधि ।
बाललीला—(सं. स्त्री.) लड़कों का खेल ।
बालब—(सं. पुं.) फलित ज्योतिष के अनुसार दूसरे करण का नाम ।
बालवत्स—(सं. पुं.) कपोत, कबूतर ।
बालविधु—(सं. पुं.) अमावस्या के बाद दूज का नवीन चन्द्रमा ।
बालव्यंजन—(सं.पुं.) लड़के का पंखा, चँवर ।
बालसांगड़ा—(हिं. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
बालसूर्य—(सं. पुं.) उदय-काल का सूर्य, वैदूर्यमणि ।
बालस्थान—(सं. पुं.) शिशुत्व, लड़कपन ।
बालः—(सं. स्त्री.) नारियल, हल्दी, पत्नी, पुत्री, कन्या, छोटी इलायची, बेले का पौधा, बारह वर्ष से सोलह वर्ष तक की स्त्री, एक वर्षवृत्त का नाम, एक वरस की गाय, धीकुआर, खैर; दश महाविद्याओं में से एक, सुगन्ध-

बाला; (हिं. पुं.) कान का आमूषण, एक प्रकार का गहूँ की उपज को नष्ट करनेवाला कीड़ा; (मुहा.) बोलबाला होना—आदर का बढ़ना;—**भोला**—(वि.) बहुत सीधा-सादा ।
बालादित्य—(सं. पुं.) तुरत का उगा हुआ सूर्य ।
बालापन—(हिं. पुं.) बचपन, लड़कपन ।
बालारुण—(सं. पुं.) देखें 'बालादित्य' ।
बालार्क—(सं. पुं.) प्रातःकाल का सूर्य ।
बालि—(सं. पुं.) वानरों का अधिपति जो सुग्रीव का बड़ा भाई था ।
बालिका—(सं. स्त्री.) छोटी कन्या, पुत्री, बेटो, इलायची, कान में पहनने की वाली ।
बालिनी—(सं. स्त्री.) अश्विनी नक्षत्र ।
बालिश—(सं. वि.) मूर्ख, अवोध ।
बालिहंता—(सं. पुं.) श्रीरामचन्द्र ।
बाली—(हिं. स्त्री.) कान में पहनने का एक प्रसिद्ध आमूषण, पौधों का वह भाग जिसमें दाने लगते हैं ।
बालुंगी—(सं. स्त्री.) कर्कटी, ककड़ी ।
बालु—(सं. पुं.) बालू, कपूर ।
बालुका—(सं. स्त्री.) बालू, ककड़ी, कपूर;—**नय**—(वि.) बालू से भरा हुआ;—**यंत्र**—(पुं.) वह यन्त्र जिसमें औषध फूँकने के लिये तप्त बालू काम में लाया जाता है ।
बालू—(हिं. पुं.) पत्थर का वह महीन चूर्ण या कण जो वर्षा-जल के साथ पहाड़ से बहकर आता और नदियों के किनारे जमा होता है, रेणुका, रेत;—**की भील**—शीघ्र नष्ट होनेवाली वस्तु ।
बालूक—(सं. पुं.) एक प्रकार का विष ।
बालूचरा—(हिं. पुं.) वह भूमि जिस पर बालू पटा हो ।
बालूदानी—(हिं. स्त्री.) बालू रखने की झंझरीदार छोटी डिविया जिससे बालू छिड़कर मसि (रोशनाई) आदि सुखायी जाती है ।
बालूबुर्द—(हिं. वि.) जो बालू पड़कर नष्ट हो गया हो; (पुं.) वह भूमि जो बालू पड़ जाने से खेती के योग्य न रह गई हो ।
बालूशाही—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मिठाई ।
बालूडू—(सं. पुं.) दूज का चन्द्र ।
बालेय—(सं. पुं.) रासम, गदहा, एक दैत्य का नाम, चावल; (वि.) बालकों के हित का, बलिदान करने योग्य ।
बालटी—(हिं. स्त्री.) देखें 'बालटी' ।
बाल्य—(सं. पुं.) लड़कपन, बालक होने की अवस्था; (वि.) बालक-सम्बन्धी,

बचपन का ।
बाल्यावस्था—(सं. स्त्री.) सोलह वर्ष तक की अवस्था, लड़कपन ।
बालूक—(सं. पुं.) कुंकुम, केसर ।
बालूकी—(सं. पुं.) जनमेजय के एक पुत्र का नाम ।
बाव—(सं.पुं.) वायु, हवा, अपान वायु, बाई ।
बावड़ी—(हिं. स्त्री.) वह चौड़ा कुआँ जिसमें पानी तक जाने के लिये सीढ़ियाँ बनी रहती हैं, बावली, छोटा तालाब ।
बावन—(हिं. वि.) पचास और दो की संख्या का; (पुं.) पचास और दो की संख्या, ५२; (मुहा.)—**तोले पाव रत्ती**—बिलकुल ठीक;—**बीर**—(पुं.) बड़ा चतुर और वीर पुरुष ।
बावना—(हिं. वि.) देखें 'बौना' ।
बावभक—(हिं. पुं.) झझक, पागलपन ।
बावरा—(हिं. वि.) देखें 'बावला' ।
बावरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'बावली' ।
बावला—(हिं. वि.) विक्षिप्त, पागल, सनकी;—**पन**—(पुं.) झक, पागलपन ।
बावली—(हिं. स्त्री.) सीढ़ियों से युक्त छोटा गहरा तालाब या चौड़े मुँह का कुआँ ।
बावाँ—(हिं. वि.) बाईं ओर का, बायाँ, विरुद्ध ।
बाष्कल—(सं. पुं.) वीर, योद्धा, चाँदी, एक ऋषि का नाम ।
बाष्प—(हिं. पुं.) भाफ, लोहा, आँसू, एक प्रकार की जड़ी, गौतम बुद्ध के एक शिष्य का नाम ।
बास—(हिं. पुं.) निवास, रहने का स्थान, वस्त्र, कपड़ा, एक प्रकार का ऊँचा वृक्ष, एक छन्द का नाम; (स्त्री.) धारदार छुरी, एक प्रकार का अस्त्र, अग्नि, आग, इच्छा, गन्ध, महक ।
बासकर्णी—(सं. स्त्री.) यज्ञशाला ।
बासकसज्जा—(हिं. स्त्री.) वह नायिका जो अपने पति या प्रियतम के आने के समय केलि-श्रीड़ा के लिए अपना शृंगार करती हो ।
बासठ—(हिं. वि.) साठ और दो की संख्या का; (पुं.) साठ और दो की संख्या, ६२;—**बाँ**—(वि.) वह जो क्रम में बासठ के स्थान पर हो ।
बासदेव—(हिं. पुं.) अग्नि, आग, देखें 'वासुदेव' ।
बासन—(हिं. पुं.) पान, बरतन ।
बासना—(हिं. स्त्री.) इच्छा, चाह, गन्ध; (क्रि. स.) सुवासित करना, महकाना ।
बासफूल—(हिं. पुं.) एक सुगन्धित धान ।
बासमती—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का बढ़िया धान जिसका चावल पकने पर सुगन्धित होता है ।

वासर—(हि. पुं.) वासर, दिन, प्रातः-काल, सवेरा, प्रातःकाल गाने का गीत ।
 वासव—(हि. पुं.) इन्द्र ।
 वासवी—(हि. पुं.) अर्जुन; -दिशा—(स्त्री.) पूर्व दिशा ।
 वाससी—(हि. स्त्री.) वस्त्र, कपड़ा ।
 वासा—(हि. पुं.) एक प्रकार की चिड़िया, अड़सा, वह स्थान जहाँ पकी हुई रसोई दाम देने पर मिलती है, निवास-स्थान ।
 वासिदा—(हि. वि.) निवासी ।
 वासित—(हि. वि.) सुगन्धित किया हुआ ।
 वासी—(हि. वि.) देर का अथवा एक दिन पहले का बना हुआ, जो हरा-भरा न हो, सूखा या कुम्हलाया हुआ, पिछले दिन का तोड़ा हुआ, बसनेवाला, रहनेवाला; (मुहा.)—कढ़ी में उवाल आना—वृद्धावस्था में जवानी की उमंग आना ।
 वासुकी—(हि. पुं.) देखें 'वासुकी' ।
 वासौंधी—(हि. स्त्री.) देख 'वसौंधी' ।
 वाह—(सं. पुं.) बाहु, बांह; (हि. पुं.) खेत जोतने की क्रिया, खेत की जोताई ।
 वाहकी—(हि. स्त्री.) कहाँ की स्त्री, कहाँरि ।
 वाहड़ी—(हि. स्त्री.) कुम्हड़ीरी डालकर पकाई हुई खिचड़ी ।
 वाहन—(हि. पुं.) एक प्रकार का ऊँचा लंबा वृक्ष, देखें 'वाहन' ।
 वाहना—(हि. क्रि. अ. स.) ढोना, लादना या लादकर ले जाना, फकना, चलाना, पकाड़ना, धारण करना, वहना, खत में हल चलाना, गाड़ी, घोड़े आदि हाँकना, गाय, भैंस आदि को गामिन कराना ।
 वाहनी—(हि. स्त्री.) सेना ।
 वाहवली—(हि. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
 वाहर—(हि. अव्य.) किसी निश्चित या कल्पित सीमा से हटकर, सिवाय, अलग, प्रभाव या अधिकार से परे, किसी दूसरे स्थान पर, भीतर का उलटा; (मुहा.)—करना—हटाना, दूर करना;—का—जो आत्मीय न हो, पराया;—वाहर—(अव्य.) ऊपर से, बिना किसी को बतलाये हुए;—होना—प्रगट होना ।
 वाहरजामी—(हि. पुं.) ईश्वर का अवतार, यथा—राम, कृष्ण आदि ।
 वाहरी—(हि. वि.) बाहर से संबद्ध, बाहर का, पराया, जो घर का न हो, जो आपस का न हो, ऊपरी, जो केवल बाहर से दिखलाने के लिए किया जाय ।
 वाहरी-टांग—(हि. स्त्री.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।

वाहस—(हि. पुं.) अजगर ।
 वाहांजोरी—(हि. अव्य.) मुजा से मुजा अथवा हाथ से हाथ मिलाकर ।
 वाहा—(हि. पुं.) वह रस्सी का टुकड़ा जिससे नाव का डंडा बँधा रहता है ।
 वाहिज—(हि. अव्य.) ऊपर से, बाहर से ।
 वाहिनी—(हि. स्त्री.) सेना, नदी, यान ।
 वाहिर—(हि. अव्य.) देखें 'बाहर' ।
 वाहीं—(हि. स्त्री.) देखें 'बांह' बाहु ।
 वाहु—(सं. पुं.) मुजा, बांह; -क—(पुं.) एक नाग का नाम, नकुल का नाम, राजा नल जब अयोध्या के राजा के सारथी बने थे तब उन्होंने अपना नाम बाहुक रखा था;—कर—(वि.) हाथों से काम करनेवाला;—कुंथ—(पुं.) पक्ष, पंख;—ज—(पुं.) क्षत्रिय जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के बाहु से मानी जाती है, सुग्गा; (वि.) वह जो बाहु से उत्पन्न हो;—जन्त—(वि.) बाहु से उत्पन्न;—ज्या—(पुं.) रेखा-गणित की भुजज्या;—त्राण—(पुं.) चमड़े, लोहे आदि का बना हुआ हस्तत्राण जो युद्ध में हाथों की रक्षा के लिये पहना जाता है;—दंतिन,—दंतेय—(पुं.) इन्द्र;—पादा—(पुं.) आलिंगन के लिए बाहुओं को फैलाना;—वल—(पुं.) हाथों की शक्ति, पराक्रम;—भाष्य—(पुं.) बहुत बोलना, बकवक;—भूषा—(पुं.) बांह पर पहनने का एक आभूषण, केयूर—भेदी—(पुं.) विष्णु;—मूल—(पुं.) कंधे और बांह का जोड़, काँख;—युद्ध—(पुं.) मल्लयुद्ध;—योध—(पुं.) पहलवान;—ल—(पुं.) बहुतायत, अग्नि, कार्तिक मास, हाथ में पहनने का कवच;—० ग्रीव—(पुं.) मयूर, मोर;—लेय—(पुं.) कार्तिकेय;—ल्य—(पुं.) आधिक्य, अधिकता;—विस्फोट—(पुं.) ताल ठोकना;—वीर्य—(पुं.) बाहुबल, पराक्रम;—शाली—(पुं.) शिव, भीम, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम;—शिखर—(पुं.) स्कन्ध, कंधा;—शोष—(पुं.) बांह में होनेवाला एक प्रकार का वातरोग;—संभव—(पुं.) क्षत्रिय;—हजार—(हि. पुं.) देखें 'सहस्रबाहु' ।
 वाह्य—(सं. पुं.) मार ढोनेवाला पशु, (वि.) ढोनेवाला, बाहरी, बाहर का;—पटी—(स्त्री.) यवनिका, नाटक का परदा ।
 वाह्याचरण—(सं. पुं.) आडंबर, ढकोसला ।
 वाह्याभ्यंतर—(सं. पुं.) प्राणायाम का एक भेद ।

वाह्यालय—(सं. पुं.) बाहर का घर ।
 वाह्यीक—(सं. पुं.) काम्बोज के उत्तरी प्रदेश का प्राचीन नाम, (यह स्थान काबुल के उत्तर की ओर था ।)
 विजन—(हि. पुं.) देखें 'व्यंजन' ।
 विद—(हि. पुं.) पानी की बूंद, वीथ की बूंद, दोनों भौंहों के बीच का स्थान, देखें 'विदी' ।
 विदा—(हि. स्त्री.) एक गोपी का नाम, माथे पर का गोल बड़ा टीका, इस आकार का कोई चिह्न ।
 विदी—(हि. स्त्री.) शून्य, सुन्ना, माथे पर लगाने का गोल छोटा टीका, इस आकार का कोई चिह्न ।
 विदु—(सं. पुं.) विदु, बूंद;—क—(पुं.) गोल टीका;—चित्रक—(पुं.) एक प्रकार का चित्तीवाला हिरन;—तंत्र—(पुं.) चौपड़ आदि की विसात;—पत्र—(पुं.) भूजपत्र, भोजपत्र;—माधव—(पुं.) विष्णु का एक नाम;—रेखा—(स्त्री.) विदुओं से बनी हुई रेखा;—वासर—(पुं.) वह दिन जब गर्भ का प्रथम-संचार होता है;—सार—(पुं.) चन्द्रगुप्त के एक पुत्र का नाम ।
 विदुका—(हि. पुं.) विदी, गोल टीका ।
 विदुरी, विदुली—(हि. स्त्री.) माथे पर का गोल टीका, टिकुली ।
 विद्रावन—(हि. पुं.) देखें 'वृन्दावन' ।
 विध—(हि. पुं.) देख 'विध्याचल' ।
 विधना—(हि. क्रि. अ.) छेदा जाना, फंसना, उलझना ।
 विधिया—(हि. पुं.) मोती में छेद करनेवाला ।
 विध—(सं. पुं.) प्रतिविम्ब, छाया, मूर्ति, कमण्डल, सूर्य या चन्द्र का मण्डल, आमास, झलक, गिरगिट, एक छन्द का नाम, कुँदरु ।
 विधक—(सं. पुं.) कुँदरु का फल ।
 विधित—(सं. वि.) प्रतिविधित ।
 विधु—(सं. पुं.) पूगीफल, सुपारी ।
 वि—(हि. वि.) दो, एक और एक ।
 विअहुता—(हि. वि.) विवाह का, विवाह-सम्बन्धी, जिसका विवाह हो गया हो ।
 विआधि—(हि. स्त्री.) देखें 'व्याधि' ।
 विआधु—(हि. पुं.) देखें 'व्याध' ।
 विआना—(हि. क्रि. अ. स.) पशुओं का वच्चा देना, जनना ।
 विआपी—(हि. वि.) देखें 'व्यापी' ।
 विकट—(हि. वि.) देखें 'विकट' ।
 विकना—(हि. क्रि. अ.) किसी पदार्थ का मूल्य लेकर दिया जाना, बेचा जाना

विक्री होना; (मुहा.) किसी के हाथ
विकना—किसीका दास या सेवक बनना ।
विकरम—(हि. पुं.) देखें 'विक्रमादित्य' ।
विकरार, विकराल—(हि. वि.) भीषण,
 डरावना, भयानक, देखें 'विकराल' ।
विकर्म—(हि. पुं.) दुष्कर्म ।
विकल—(हि. वि.) व्याकुल, घबड़ाया
 हुआ, देखें 'विकल' ।
विकलाई—(हि. स्त्री.) व्याकुलता, बेचैनी ।
विकलाना—(हि. क्रि. अ. स.) व्याकुल होना,
 घबड़ाना, व्याकुल करना ।
विकवाना—(हि. क्रि. स.) बेचने का काम
 दूसरे से कराना, किसी से विक्री कराना ।
विकसना—(हि. क्रि. अ.) खिलना, फूलना,
 बहुत प्रसन्न होना ।
विकसाना—(हि. क्रि. स.) विकसित कराना,
 खिलाना, प्रफुल्ल या प्रसन्न करना ।
विकाऊ—(हि. वि.) विकाने योग्य, विकाने-
 वाला ।
विकाना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'विकना' ।
विकार—(हि. पुं.) देख 'विकार'; (वि.)
 विकराल, भयंकर ।
विकारी—(हि. वि.) विकृत रूपवाला,
 हानिकारक; (स्त्री.) संख्या या मान
 सूचित करने के लिये मन, सेर, रुपए
 आदि की चिन्हरूप टेढ़ी रेखा ।
विकास—(हि. पुं.) देखें 'विकास' ।
विक्री—(हि. स्त्री.) बेचे जाने की क्रिया या
 भाव, वह धन जो बेचने से प्राप्त होता है ।
विक्रय—(हि. वि.) विकाऊ, बचने योग्य ।
विक्र—(हि. पुं.) विष, गरल ।
विक्रम—(हि. वि.) देखें 'विक्रम' ।
विक्ररना—(हि. क्रि. अ.) चीजों, कर्णों आदि
 का इधर-उधर गिरना या फैल जाना,
 छितराना ।
विक्रराना—(हि. क्रि. स.) विक्ररना ।
विक्षाद—(हि. पुं.) देखें 'विषाद' ।
विक्षान—(हि. पुं.) देखें 'विषाण' ।
विक्षरना—(हि. क्रि. स.) इधर-उधर
 फैलाना, तितर-वितर करना, छितराना ।
विग—(हि. पुं.) भड़िया ।
विगड़ना—(हि. क्रि. अ.) असली रूप, रंग
 या गुण नष्ट हो जाना, कुचाली होना,
 क्रुद्ध होना, अप्रसन्नता प्रगट करना, विरोध-
 भाव होना, पशु आदि का अपने रक्षक के
 काबू से बाहर होना, बुरी अवस्था या
 दुर्दशा को प्राप्त होना, लड़ाई-झगड़ा होना,
 व्यर्थ व्यय होना, किसी पदार्थ का बचते
 समय ठीक न उतरना, फल आदि का
 सड़ना ।

विगड़ेदिल—(हि. वि.) जो बात-बात में
 लड़ने-झगड़ने लगे, जो हृदय का बुरा
 हो, कुपथ पर चलनेवाला ।
विगड़ल—(हि. वि.) थोड़ी बात पर क्रुद्ध
 होनेवाला, हठ करनेवाला ।
विगर—(हि. अव्य.) रहित, विना ।
विगरना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'विगड़ना' ।
विगराइल—(हि. वि.) देखें 'विगड़ल' ।
विगसना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'विकसना' ।
विगहा—(हि. पुं.) देखें 'बीघा' ।
विगही—(हि. स्त्री.) क्यारी, बरही ।
विगाड़—(हि. पुं.) वैमनस्य, लड़ाई-
 झगड़ा, दोष, बुराई, विगड़ने की क्रिया
 या भाव ।
विगाड़ना—(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु के
 स्वाभाविक रूप, रंग या गुण को नष्ट
 करना, कुमार्ग में लगाना, बुरी अवस्था
 में लाना, व्यर्थ व्यय कराना, किसी स्त्री
 का सतीत्व नष्ट करना, बुरा अभ्यास
 डालना, बहकाना, किसी वस्तु को बनाते
 समय उसमें ऐसा एव उत्पन्न कर
 देना कि वह ठीक न बन सके ।
विगार—(हि. पुं.) देखें 'विगाड़' ।
विगारी—(हि. स्त्री.) देखें 'वेगारी' ।
विगास—(हि. पुं.) देखें 'विकास' ।
विगासना—(हि. क्रि. स.) विकसित करना ।
विगिर—(हि. अव्य.) वगैर, सिवाय ।
विगुन—(हि. वि.) गुणरहित, जिसमें कोई
 गुण न हो ।
विगुर—(हि. वि.) विना गुरु का, जिसने
 किसी गुरु से शिक्षा न प्राप्त की हो ।
विगुरदा—(हि. पुं.) प्राचीन समय का
 एक प्रकार का शस्त्र ।
विगुल—(हि. पुं.) एक प्रकार की तुरही ।
विगुद्धन—(हि. स्त्री.) उलझन, चित्त का
 भ्रम, असमंजस, कठिनता ।
विगुचना, विगुतना—(हि. क्रि. अ. स.)
 संकोच में पड़ना, अड़चन में पड़ना,
 दबाया जाना, पकड़ा जाना, दबोचना ।
विगोना—(हि. क्रि. स.) नष्ट करना,
 विनाश करना, व्यग्र करना, छिपाना,
 चुराना, बहकाना, भ्रम में डालना ।
विग्नाहा—(हि. पुं.) आर्या छन्द का एक
 भेद, (इसको उद्गीति भी कहते हैं) ।
विग्रह—(हि. पुं.) देखें 'विग्रह' ।
विघटना—(हि. क्रि. अ. स.) विनाश करना,
 विगाड़ना, विघटित करना या होना ।
विघन—(हि. पुं.) देखें 'विघ्न' वाघा; -हरन
 - (पुं.) विघ्नो को हटानेवाले, गणेशजी ।
विच—(हि. वि.) देखें 'वीच' ।

विचकना—(हि. क्रि. अ.) सड़कना ।
विवकाना—(हि. क्रि. स.) किसी को चिढ़ाने
 के लिये मुंह टेढ़ा करना, मुंह चिढ़ाना ।
विचरना—(हि. क्रि. अ.) इधर-उधर
 घूमना, चलना-फिरना, पर्यटन करना ।
विचलना—(हि. क्रि. अ.) विचलित
 होना, इधर-उधर हटना, किसी बात को
 कहकर मुकर जाना, हिम्मत हारना ।
विचला—(हि. वि.) वीच का, वीचवाला ।
विचलाना—(हि. क्रि. स.) विचलित
 करना, अस्थिर करना, डिगाना, तितर-
 वितर करना ।
विचवई—(हि. पुं.) मध्यस्थ; (स्त्री.)
 मध्यस्थता ।
विचवान, विचवानी—(हि. पुं.) मध्यस्थ,
 वह जो झगड़ा निवटाता हो ।
विचारना—(हि. क्रि. स.) विचार करना ।
विचारमान—(हि. वि.) विचार करने-
 वाला, विचारने योग्य ।
विचारा—(हि. वि.) देखें 'बेचारा' ।
विचारी—(हि. वि.) विचार करनेवाला;
 (वि. स्त्री.) देखें 'विचारा' ।
विचाल—(हि. पुं.) अन्तर ।
विचेत—(हि. वि.) अचेत, मूर्च्छित ।
विचौहाँ—(हि. पुं.) मध्यस्थ ।
विच्छिति—(सं. स्त्री.) शृंगार रस के ग्यारह
 भावों में से एक जिसमें किसी पुरुष का
 स्त्री के किञ्चित् शृंगार से ही मोहित
 होना वर्णन किया जाता है, विच्छिति ।
विच्छी—(हि. स्त्री.) विच्छू—(हि. पुं.) एक
 छोटा कीड़ा जिसकी पूंछ में डंक होता
 और विष रहता है, एक प्रकार की
 घास जिसके स्पर्श से विच्छू काटने के
 समान जलन और पीड़ा उत्पन्न होती है ।
विछना—(हि. क्रि. अ.) फैलाया जाना,
 छितराया जाना, मूमि पर विछाया जाना ।
विछलन—(सं. पुं.) फिसलन ।
विछलना—(हि. क्रि. स.) देखें 'फिसलना' ।
विछलाना—(हि. क्रि. स.) फिसलाना ।
विछवाना—(हि. क्रि. स.) विछाने का
 काम दूसरे से कराना ।
विछाना—(हि. क्रि. स.) चादर आदि पूरे
 विस्तार से फैलाना, मारकर गिराना या
 लिटा देना, विखरना, सखने के लिए
 अन्न आदि को मूमि पर कुछ दूर तक
 फैला देना ।
विछवन—(हि. पुं.), विछायत—(हि. स्त्री.)
 विछौना ।
विच्छिया—(हि. स्त्री.) पैर की अँगुलियों में
 पहनने का एक प्रकार का छल्ला ।

विछिप्त—(हिं. वि.) देखें 'विक्षिप्त' ।
 विछुआ (वा)—(हिं. पुं.) पैर में पहनने का एक प्रकार का गहना, एक प्रकार की छोटी छुरी, अगिया नामक पास ।
 विछुड़ने—(हिं. स्त्री.) विछुड़ने या अलग होने का भाव, वियोग ।
 विछुड़ना—(हिं. क्रि. अ.) साथ रहनेवाले दो व्यक्तियों का अलग होना, प्रेमियों का परस्पर वियोग होना ।
 विछुरंता—(हिं. पुं.) विछुड़नेवाला ।
 विछुरना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'विछुड़ना' ।
 विछुवा—(हिं. पुं.) देखें 'विछिया' ।
 विछोई (ही)—(हिं. पुं.) वियोगी ।
 विछोड़ा—(हिं. पुं.) विछोह, विछुड़ने की क्रिया या भाव ।
 विछोय, विछोह—(हिं. पुं.) वियोग, विरह ।
 विछोय(ह)ना—(हिं. क्रि. अ.) वियोग होना ।
 विछौना—(हिं. पुं.) विछाने का वस्त्र, विछावन, विस्तर ।
 विजड़—(हिं. स्त्री.) खड़ग, तलवार ।
 विजन, विजना—(हिं. पुं.) व्यजन, पंखा; (वि.) एकान्त, जिसके साथ दूसरा कोई न हो ।
 विजयघंट—(हिं. पुं.) मन्दिरों में लटकाया जानेवाला बड़ा घंटा ।
 विजयसार—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बहुत बड़ा जंगली वृक्ष, (इसकी लकड़ी बहुत पुष्ट होती है ।)
 विजली—(हिं. स्त्री.) रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न वह शक्ति जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण तथा अपकर्षण होता और जिससे ताप एवं प्रकाश भी उत्पन्न होता है, विद्युत्, वादलों के टकराने से होनेवाला वह प्रकाश जो आकाश में बर्षा-काल में दिखाई पड़ता है, आम की गुठली के भीतर की गरी, कान में पहनने का एक गहना, गले में पहनने का एक आभूषण; (वि.) अविक तीव्र या चंचल, चमकीला; (मुहा.)—कड़कना—आकाश में गड़गड़ाहट और तीव्र चमक होना; —गिरना या मारना—आकाश से विद्युत् का वेग के साथ भूमि पर आना ।
 विजहन—(हिं. वि.) (वह वीज) जिसकी जामनेकी शक्ति नष्ट हो गई हो, हतवीर्य ।
 विजाती—(हिं. वि.) दूसरी जाति का, जाति से निकाला हुआ, बहिष्कृत ।
 विजान—(हिं. वि.) अज्ञान, अनजान ।
 विजायठ—(हिं. पुं.) वाह पर पहनने का एक आभूषण, बाजूबंद ।

विजुरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'विजली' ।
 विजूका, विजूखा—(हिं. पुं.) विभीषिका, पशु-पक्षियों को डराने के लिए खेत में खड़ा किया हुआ पुतला ।
 विजैसार—(हिं. पुं.) देखें 'विजयसार' ।
 विजोग—(हिं. पुं.) देखें 'वियोग' ।
 विजोरा—(हिं. वि.) निर्बल, बलहीन, अशक्त ।
 विजोहा—(हिं. पुं.) एक छन्द का नाम ।
 विजौरा—(हिं. पुं.) नींबू की जाति का एक वृक्ष जिसके फल नारंगी के दरावर होते हैं ।
 विजोरी—(हिं. स्त्री.) कुम्हड़ीरी ।
 विज्जु—(हिं. स्त्री.) विजली, विद्युत् ।
 विज्जुपात—(हिं. पुं.) विजली का गिरना ।
 विज्जुल—(हिं. स्त्री.) विजली; (पुं.) त्वचा, छिलका ।
 विज्जू—(हिं. पुं.) विल्ली की तरह का एक जंगली पशु ।
 विज्जूहा—(हिं. पुं.) एक वर्णिकवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो रगण होते हैं ।
 विझरा—(हिं. पुं.) एक में मिला हुआ मटर, चना, गेहूँ और जव ।
 विझुकना—(हिं. क्रि. स.) भयभीत होना ।
 विझुकाना—(हिं. क्रि. स.) मड़काना, डराना, टेढ़ा करना ।
 विट—(हिं. पुं.) देखें 'विट्', नायक का वह साथी जो सब कलाओं में निपुण हो, पक्षियों की विष्ठा, वीट ।
 विटप—(हिं. पुं.) देखें 'विटप' ।
 विटपी—(हिं. पुं.) वृक्ष ।
 विटरना—(हिं. क्रि. अ.) घँघोलना, घँघोलकर मिला करना, मलिन होना, घँघोला जाना ।
 विटिनियाँ, विटिया—(हिं. स्त्री.) बेटो, पुत्री ।
 विट्ठल—(हिं. पुं.) विष्णु का एक नाम, वंदई प्रांत में शोलापुर के अन्तर्गत पंढरपुर नगर की एक प्रसिद्ध देवमूर्ति जो बुद्ध की मूर्ति-सी जान पड़ती है ।
 विठलाना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'वैठाना' ।
 विठाना—(हिं. क्रि. स.) वैठाना ।
 विडंब—(हिं. पुं.) आडंबर ।
 विडंबना—(हिं. स्त्री.) देखें 'विडंबना' ।
 विड—(हिं. पुं.) विष्ठा, एक प्रकार का नामक ।
 विडर—(हिं. वि.) छितराया हुआ, दूर-दूर, निर्भय, जिसको डर न लगता हो, घृष्ट, ढीठ ।
 विडरना—(हिं. क्रि. अ.) अस्त-व्यस्त होना, तितर-वितर होना, पशुओं का भयभीत होना, विचकना ।

विडराना—(हिं. क्रि. स.) तितर-वितर करना, भगाना ।
 विडरना—(हिं. क्रि. स.) डराकर भगाना, नष्ट करना ।
 विडाल—(सं. पुं.) विलाव, विल्ला, विडालाक्ष नामक दैत्य जिसको दुर्गा ने मारा था, दोहे का एक भेद; —पद—(पुं.) एक तौल जो एक कर्ष के बराबर होती है; —व्रतिक—(वि.) लोभी, कपटी स्वभाव का ।
 विडालाक्ष—(सं. वि.) वह जिसकी आँख विल्ली की आँखों के सदृश हों ।
 विडौलिका—(सं. स्त्री.) विल्ली, हरताल ।
 विडाली—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का आँख का रोग ।
 विडौजा—(सं. पुं.) इन्द्र का एक नाम ।
 विडतो—(हिं. पुं.) लाभ ।
 विडवना—(हिं. क्रि. स.) एकत्रित करना, संचित करना, इकट्ठा करना ।
 विडाना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'विडवना' ।
 वित्त—(हिं. पुं.) देखें 'वित्त', धन, द्रव्य, शक्ति, सामर्थ्य, आकार ।
 वितताना—(हिं. क्रि. अ., प्र.) व्याकुल होना, घबड़ाना, कष्ट देना ।
 वितना—(हिं. पुं.) वित्ता, ऐंठन चढ़ते समय रस्से में लगानेका लकड़ीका छोटा टुकड़ा ।
 वितरना—(हिं. क्रि. स.) बाँटना ।
 वितवना—(हिं. क्रि. स.) विताना ।
 वित्ता—(हिं. पुं.) देखें 'वित्ता' ।
 विताना—(हिं. क्रि. स.) समय आदि व्यतीत करना ।
 विताल—(हिं. पुं.) देखें 'वैताल' ।
 विताना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'विताना' ।
 वितोत्तना—(हिं. क्रि. अ.) व्यतीत होना ।
 वितु—(हिं. पुं.) देखें 'वित्त' ।
 वित्त—(हिं. पुं.) देखें 'वित्त', धन ।
 वित्ता—(हिं. पुं.) फीलाकर अँगूठे के सिरे से कानी उँगली के छोर तककी नाप ।
 वित्कना—(हिं. क्रि. अ.) चकित होना, थकना ।
 वितरना—(हिं. क्रि. अ.) इधर-उधर होना, छितराना, खिल जाना ।
 विथा—(हिं. स्त्री.) देखें 'व्यथा', पीड़ा ।
 विथारना—(हिं. क्रि. स.) छिटकाना, विखेरना ।
 विथित—(हिं. वि.) देखें 'व्यथित' ।
 विथोरना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'विथरना' ।
 विदकना—(हिं. क्रि. अ.) फटना, चिरना, धायल होना, मड़कना ।
 विदकाना—(हिं. क्रि. स.) विदीर्ण करना,

फाड़ना, धायल करना ।
विदर-(हिं. पुं.) विदर्भ देश (आधुनिक नाम वरार), जस्ते और ताँबे के मेल से बनी हुई एक उपधातु; -साज-(पुं.) विदर धातु के पात्र आदि बनानेवाला ।
विदरन-(हिं. स्त्री.) दरार, फटना; (वि.) फाड़ने या चीरनेवाला ।
विदरना-(हिं. क्रि. अ.) फटना ।
विदरी-(हिं. स्त्री.) विदर धातु का बना हुआ वरतन आदि ।
विदल-(सं. पुं.) दाल, अनारदाना, बाँस का बना हुआ पात्र, लाल सोना, पीठी ।
विदलना-(हिं. क्रि. अ.) दलित करना ।
विदला-(सं. स्त्री.) निसोथ; (वि.) जिसमें पत्ते न हों ।
विदा-(हिं. स्त्री.) प्रस्थान, जाने की आज्ञा, द्विरागमन, गवन, गौना ।
विदाई-(हिं. स्त्री.) विदा होने का भाव या क्रिया, विदा होने की आज्ञा, किसी के विदा होने के समय दिया जानेवाला धन ।
विदारना-(हिं. क्रि. स.) चीरना, फाड़ना, नष्ट करना, विगाड़ना ।
विदारी-कंद-(हिं. पुं.) एक प्रकार का लाल कन्द जो प्रायः वेल की जड़ में होता है, विदारी-कंद ।
विदुराना-(हिं. क्रि. स.) मुखाकृतियाँ बनाना, धीरे-धीरे हँसना, मुस्कराना ।
विदुरानी-(हिं. स्त्री.) मुस्कराहट ।
विदूषना-(हिं. क्रि. स.) कलंक या दोष लगाना ।
विदेश-(हिं. पुं.) विदेश, अपने देश के अतिरिक्त अन्य देश, परदेश ।
विदोख-(हिं. पुं.) वैमनस्य, वैर, शत्रुता ।
विदोरना-(हिं. क्रि. स.) ओठ चलाना ।
विधंसना-(हिं. क्रि. स.) नष्ट करना ।
विध-(हिं. पुं.) हाथी का चारा, ब्रह्मा, (स्त्री.) प्रकार, तरह, आय-व्यय आदि का लेखा; (मुहा.)-**मिलाना-**आय-व्यय की रकमों को देखना कि ठीक लिखी गई है या नहीं ।
विधना-(हिं. पुं.) विधि, विधाता, ब्रह्मा ।
विध्वंदी-(हिं. स्त्री.) भूमिकर की वह रीति जिसमें उपज की कृत पर रकम दी जाती है ।
विध्वपन-(हिं. पुं.) वैधव्य, रँड़ापा ।
विधवा-(हिं. स्त्री.) देखें 'विधवा' ।
विधवाना-(हिं. क्रि. स.) छेद कराना ।
विध्वंसना-(हिं. क्रि. स.) विध्वंस करना, नष्ट करना ।
विधवाई-(हिं. पुं.) विधायक, विधान करनेवाला ।

विधाना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'विधाना' ।
विधानी-(हिं. पुं.) रचने या बनानेवाला ।
विधिना-(हिं. पुं.) देखें 'विधना' ।
बिधुंतुद-(हिं. पुं.) राहु ।
बिधुंसना-(हिं. क्रि. स.) नष्ट करना ।
बिधु-(सं. पुं.) देखें 'बिधु' ।
विन-(हिं. अव्य.) विना ।
विनई-(हिं. वि.) देखें 'विनयी' ।
विनउ-(हिं. स्त्री.) देखें 'विनय' ।
विनता-(हिं. पुं.) देखें 'विनता' ।
विनति, विनती-(हिं. स्त्री.) निवेदन, प्रार्थना ।
विनन-(हिं. स्त्री.) बुनने की क्रिया, बुनावट, अन्न आदि में से चुनकर निकाला हुआ कूड़ा-करकट ।
विनना-(हिं. क्रि. स.) छोटे-छोटे पदार्थों को एक-एक करके अलग करना, चुनना, इच्छानुसार संग्रह करना, छाँटकर अलगाना, देखें 'बुनना' ।
विनय-(हिं. स्त्री.) देखें 'विनय' ।
विनयना-(हिं. क्रि. स.) प्रार्थना करना, विनय करना ।
विनवाना-(हिं. क्रि. स.) चुनवाना, बुनवाना ।
विनसना-(हिं. क्रि. अ., स.) नष्ट होना या करना ।
विनसाना-(हिं. क्रि. अ., स.) नष्ट करना, विगाड़ना, नष्ट होना ।
विना-(हिं. अव्य.) छोड़कर, वगैर ।
विनाई-(हिं. स्त्री.) विनने (चुनने) की क्रिया या भाव, इस कार्य का शुल्क ।
विनाती-(हिं. स्त्री.) देखें 'विनती' ।
विनाना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'बुनाना' ।
विनानी-(हिं. वि.) अज्ञानी; (स्त्री.) विशेष विचार ।
विनावट-(हिं. स्त्री.) देखें 'बुनावट' ।
विनासना-(हिं. क्रि. स.) संहार करना, नष्ट करना ।
विनि, विनु-(हिं. अव्य.) विना ।
विनै-(हिं. स्त्री.) देखें 'विनय' ।
विनौका-(हिं. पुं.) नये धान्य का पकवान जो देवता के निमित्त अर्पण किया जाता है ।
विनौरिया-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की घास जो चारे के काम में आती है ।
विनौला-(हिं. पुं.) कपास का बीज ।
विपच्छ-(हिं. पुं.) देखें 'विपक्ष', शत्रु; (वि.) विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध ।
विपच्छो-(हिं. पुं.) विपक्षी, शत्रु, विरोधी ।
विपत्त-(हिं. स्त्री.) देखें 'विपत्ति' ।
विपरीत-(हिं. वि.) विपरीत, प्रतिकूल ।

विफरना-(हिं. क्रि. अ.) विद्रोही होना ।
विवछना-(हिं. क्रि. अ.) विरोधी होना, उलझना ।
विवरन-(हिं. वि.) जिसका रंग विगड़ गया हो; (पुं.) देखें 'विवरण' ।
विवस-(हिं. वि.) विवश, पराधीन, परतन्त्र; (अव्य.) विवश होकर ।
विवहार-(हिं. पुं.) देखें 'व्यवहार' ।
विवाई-(हिं. स्त्री.) विवाई, पैर के तलवे के फटने का रोग ।
विवाक-(हिं. वि.) वेवाक चुकता ।
विवादाना-(हिं. क्रि. अ.) विवाद करना ।
विवाहना-(हिं. क्रि. स.) विवाह करना ।
विभाना-(हिं. क्रि. अ.) चमकना ।
विभावरी-(हिं. स्त्री.) विभावरी, रात्रि ।
विभित्सा-(हिं. स्त्री.) फूट डालने की इच्छा ।
विमन-(हिं. वि.) अति दुःखी, चिन्तित, उदास; (अव्य.) विना चित्त लगाये, अनमना होकर ।
विमानी-(हिं. वि.) मानरहित ।
विमोहना-(हिं. क्रि. अ., स.) मोहित होना या करना, लुभाना, ललचाना ।
विमौरा-(हिं. पुं.) बल्मीक, बाँवी ।
विय-(हिं. वि.) युग्म, दो, दूसरा ।
वियत-(हिं. पुं.) वियत्, आकाश ।
वियसार-(हिं. पुं.) एक प्रकार का बहुत ऊँचा पहाड़ी वृक्ष ।
विया-(हिं. पुं.) बीज, (वि.) अन्य, दूसरा ।
वियाज-(हिं. पुं.) देखें 'व्याज' ।
वियाड़-(हिं. पुं.) वह खेत जिसमें पहले बीज बोये जाते हैं और बाद में वेहन उखाड़कर दूसरे खेत में रोपे जाते हैं ।
वियाघा-(हिं. पुं.) देखें 'व्याघा' ।
वियाधि-(हिं. स्त्री.) देखें 'व्याधि' ।
वियान-(हिं. पुं.) प्रसव, पशुओं का बच्चा देना ।
वियाना-(हिं. क्रि. अ., स.) पशुओं का बच्चा देना ।
वियापना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'व्यापना' ।
वियारी, वियालू-(हिं. स्त्री.) देखें 'व्यालू' ।
वियाह-(हिं. पुं.) विवाह, व्याह ।
वियाहता-(हिं. स्त्री.) (वह स्त्री) जिसके साथ विवाह हुआ हो ।
वियो-(हिं. पुं.) पौत्र, पोता ।
वियोग-(हिं. पुं.) देखें 'वियोग' ।
विरंग-(हिं. वि.) कई रंगों का, जिसमें एक से अधिक रंग हों, विना रंग का ।
विरचना-(हिं. क्रि. स.) बनाना ।
विरचि-(हिं. पुं.) ब्रह्मा ।
विरई-(हिं. स्त्री.) छोटा विरवा, जड़ी-बूटी ।

विरझना—(हि. क्रि. अ.) झगड़ा करना ।
 विरताना—(हि. क्रि. स.) वांटना ।
 विरथा—(हि. वि.) वृथा, व्यर्थ, निरर्थक ।
 विरद—(हि.पुं.) वड़ाई, यश, देखें 'विरद' ।
 विरदंत—(हि.पुं.) बड़ा या प्रसिद्ध वीर या योद्धा; (वि.) प्रसिद्ध, नामी ।
 विरध—(हि. वि.) देखें 'वृद्ध' ।
 विरधाई—(हि. स्त्री.) वृद्धावस्था, वृद्धापा ।
 विरघापन—(हि.पुं.) वृद्ध होने का भाव, वृद्धापा, वृद्धावस्था ।
 विरमना—(हि. क्रि. अ.) विराम करना, सुस्ताना, ठहरना, मोहित होना ।
 विरमाना—(हि. क्रि. स.) व्यतीत करना, विताना, ठहराना, रोक रखना, मुग्ध या मोहित करना ।
 विरला—(हि. वि.) कोई-कोई, इक्का-दुक्का ।
 विरवा—(हि. पुं.) वृक्ष, पौधा ।
 विरवाई(ही)—(हि. स्त्री.) छोटे-छोटे पौधों का कुंज ।
 विरषभ—(हि. पुं.) देखें 'वृषभ' ।
 विरसन—(हि. पुं.) विष, गरल ।
 विरहिनी—(हि. पुं.) विरहिणी, वह नायिका जो अपने प्रियतम के विरह से दुःखित हो ।
 विरहा—(हि.पुं.) एक प्रकार का लोक-गीत ।
 विरही—(हि.पुं.) विरही ।
 विराग—(हि. पुं.) विराग, विरक्ति ।
 विराजना—(हि. क्रि. अ.) शोभित होना, शोभा देना, वैठना ।
 विरादर—(फा. पुं.) भाई-बंधु ।
 विरादराना—(फा. वि.) भाई का-सा, भ्रातृवत् ।
 विरादरी—(फा. स्त्री.) जाति, कुल, गोत्र, भाई-चारा ।
 विरान, विराना—(हि. वि.) दूसरा ।
 विराना—(हि. क्रि. स.) मुंह चिढ़ाना ।
 विरियां—(सं. स्त्री.) समय, वार ।
 विरिया—(हि. स्त्री.) कान में पहनना का कटोरी के आकार का एक गहना ।
 विरी—(हि. स्त्री.) देखें 'वीड़ी' ।
 विरुआ—(हि.पुं.) एक प्रकार का राजहंस ।
 विरुझना—(हि.क्रि.अ.) उलझना, झगड़ना ।
 विरोजा—(हि. पुं.) देखें 'गंधा-विरोजा' ।
 विरद—(हि. पुं.) प्रशंसा ।
 विरवाई—(हि. स्त्री.) वृद्धापा ।
 विरूप—(हि. वि.) कुरूप ।
 विरोधना—(हि. क्रि. अ.) विरोध करना, बैर करना ।
 विलंद—(हि. वि.) जंचा ।

विलंब—(हि. वि.) विलंब, लटकने वाला; (पुं.) देर, सुस्ती ।
 विलंबना—(हि. क्रि. अ.) विलंब करना, देर करना, रुकना, ठहरना ।
 विल—(सं. पुं.) छेद, गुहा, कन्दरा, जंगली पशुओं के रहने का स्थान जिसको वे खोदकर बनाते हैं, इंद्र का घोड़ा ।
 विलखना—(हि. क्रि. अ.) विलाप करना, रोना, दुःखी होना ।
 विलखाना—(हि. क्रि. स.) रलाना, दुःखी करना ।
 विलग—(हि. वि.) पृथक्, अलग; (पुं.) अलग होने का भाव, द्वेष रंज ।
 विलगाना—(हि.क्रि.अ., स.) पृथक् होना, अलग करना, अलगाना, चुनना, छोटना ।
 विलगी—(हि.पुं.) एक प्रकार का संकर राग ।
 विलच्छन—(हि. वि.) देखें 'विलक्षण' ।
 विलछना—(हि. क्रि. अ.) लखना ।
 विलनी—(हि. स्त्री.) काली भौरी जो भीत या किवाड़ों पर अपने रहने के लिये मिट्टी की नाँबी बनाती है, आँख की पलक पर होनेवाली फुंसी ।
 विलपना—(हि. क्रि. अ.) विलाप करना, रोना ।
 विलविलाना—(हि. क्रि. अ.) छोटे-छोटे कीड़ों का इधर-उधर रगना, असंबद्ध प्रलाप करना, व्याकुल होकर बकना, मूख से व्यग्र होना, कष्ट के कारण व्याकुल होकर रोना, चिल्लाना ।
 विलमना—(हि. क्रि. अ.) विलम्ब करना, देर करना, ठहरना, रुकना ।
 विलमाना—(हि. क्रि. स.) अटकाना, रोक रखना, देर करना ।
 विललाना—(हि. क्रि. अ.) विलाप करना, विलखकर रोना, व्याकुल होकर बड़बड़ाना ।
 विलवाना—(हि. क्रि. स.) खोना, गँवाना, नष्ट करना, दूसरे से किसी वस्तु को नष्ट कराना, छिपाना, छिपवाना ।
 विलवास—(सं.पुं.) विल में रहनेवाला जन्तु ।
 विलवासी—(सं.वि.) विल में रहनेवाला ।
 विलसना—(हि. क्रि. अ., स.) भोग करना, अच्छा जान पड़ना, शोभा देना ।
 विलसाना—(हि. क्रि. स.) भोग करना, काम में लाना, दूसरे से भोग कराना ।
 विलस्त—(हि. पुं.) वित्त ।
 विलहरा—(हि. पुं.) वाँस की तीलियों का बना हुआ एक प्रकार का चिपटा डब्बा ।
 विला—(अ. अव्य.) विना, वगैर ।

विलाई—(हि. स्त्री.) विल्ली, लोहे या लकड़ी की सिटकनी जो किवाड़ों को बंद करने के लिये लगाई जाती है, अँकुसी या काँटा जिससे कुएँ में गिरे हुए पात्र आदि निकाले जाते हैं ।
 विलाईकंद—(हि. पुं.) देखें 'विदारीकंद' ।
 विलाना—(हि. क्रि. अ.) नष्ट होना, विलीन होना, अदृश्य होना, छिप जाना ।
 विलापना—(हि. क्रि. अ.) विलाप करना ।
 विलार—(हि. पुं.) मार्जार, विल्ली ।
 विलारी—(हि. स्त्री.) विल्ली ।
 विलारीकंद—(हि. पुं.) देखें 'विदारीकंद' ।
 विलाव—(हि. पुं.) देखें 'विलार' ।
 विलावर—(हि. पुं.) देखें 'विल्लौर' ।
 विलावल—(सं. पुं.) एक राग का नाम ।
 विलास—(हि. पुं.) विलास ।
 विलासना—(हि. क्रि. अ.) भोगना, भोग करना ।
 विलिया—(हि. स्त्री.) कटोरी, गाय-बैल आदि के गले का एक रोग ।
 विलूर—(हि. पुं.) देखें 'विल्लौर' ।
 विलेशय—(सं.पुं.) सर्प, चूहा, नेवला, खरहा ।
 विलैया—(हि. स्त्री.) विल्ली, कद्दू, मूली आदि के लच्छे काटने का एक यन्त्र, कद्दूकश, सिटकनी, ।
 विलोकना—(हि.क्रि.स.) अवलोकन करना, देखना ।
 विलोकनि—(हि. स्त्री.) देखने की क्रिया, दृष्टिपात, कटाक्ष ।
 विलोडना—(हि. क्रि. स.) अस्त-व्यस्त करना, दही आदि मथना ।
 विलोन—(हि. वि.) विना नमक का, कुरूप, भद्दा ।
 विलोना—(हि. क्रि. स.) मथना, खूब हिलाना, ढालना, गिराना; (वि.) विलोन ।
 विलोरना—(हि. क्रि. स.) देखें 'विलोडना' ।
 विलोलना—(हि. क्रि. अ.) हिलना-डोलना ।
 विलोचना—(हि. क्रि. स.) देखें 'विलोना' ।
 विलौर—(हि. पुं.) देखें 'विल्लौर' ।
 विलकुल—(हि. अव्य.) देखें 'विलकुल' ।
 विल्ल—(सं. पुं.) आलवाल, थाला ।
 विल्लमूला—(सं. स्त्री.) वाराहीकन्द ।
 विल्ला—(हि. पुं.) मार्जार, नर विल्ली, संस्था विशेष की सदस्यता सूचक पट्टी जो बाँह पर या गले में पहनी जाती है ।
 विल्ली—(हि. स्त्री.) एक प्रसिद्ध मांसाहारी पशु, किवाड़ आदि में लगाने की सिटकनी, विलैया ।
 विल्लूर, विल्लौर—(हि. पुं.) एक प्रकार का स्वच्छ पारदर्शक पत्थर, स्फटिक,

स्वच्छ शीशा ।
 विल्लौरी-(हि. वि.) विल्लौर का वना हुआ, विल्लौर पत्थर का, विल्लौर के समान स्वच्छ ।
 विल्व-(सं. पुं.) वेल का वृक्ष; -पत्र-(पुं.) वेल की पत्ती; -वन-(पुं.) वेल का जंगल ।
 विवरना-(हि. क्रि. अ.) सुलझना ।
 विवराना-(हि. क्रि. स.) सिर के बालों को सुलझवाना या सुलझाना ।
 विवाई-(हि. स्त्री.) पाँव के तलवे का फटना ।
 विषया-(हि. स्त्री.) विषय-वासना ।
 विषान-(हि. पुं.) देखें 'विषाण' ।
 विसंच-(हि. पुं.) संचय न होना, कार्य की हानि, बाधा, भय, डर ।
 विसंभर-(हि. पुं.) देखें 'विश्वंभर' ।
 विसंभार-(हि. वि.) असावधान, बेसुव ।
 विस-(हि. पुं.) देखें 'विप' ।
 विसखापर, विसखपरा-(हि. पुं.) गोह की जाति का एक विपैला जन्तु, पुनर्तवा, एक प्रकार की जंगली बूटी ।
 विसज-(सं. पुं.) पद्म, कमल ।
 विसतरना-(हि. क्रि. अ., स.) विस्तार करना, बढ़ाना, फैलाना, फैलाना ।
 विसद-(हि. वि.) देखें 'विशद' ।
 विसन-(हि. पुं.) देख 'व्यसन' ।
 विसनी-(हि. वि.) जिसको किसी बात का व्यसन हो, जिसको सामान्य पदार्थ अच्छे न लगें, छैल-चिकनियाँ ।
 विसमय-(हि. पुं.) देखें 'विस्मय' ।
 विसमरना-(हि. क्रि. स.) विस्मरण होना, भूल जाना ।
 विसयक-(हि. पुं.) देश, राष्ट्र ।
 विसरना-(हि. क्रि. स.) विस्मृत होना, भूल जाना ।
 विसरात-(हि. पुं.) खच्चर ।
 विसराना-(हि. क्रि. स.) ध्यान से भुला देना ।
 विसराम-(हि. पुं.) देखें 'विश्राम' ।
 विसरावना-(हि. क्रि. स.) देखें 'विसराना' ।
 विसल-(सं. पुं.) अंकुर, कोंपल ।
 विसवार-(हि. पुं.) हज्जाम की छुरा, चनोटा आदि रखने की पटी ।
 विसवास-(हि. पुं.) देखें 'विश्वास' ।
 विसतना-(हि. क्रि. स.) बय करना, शरीर काटना, चीरना-फाड़ना, विश्वास करना ।
 विसतना-(हि. क्रि. स.) मोल लेना ।
 विसहरा-(हि. पुं.) सर्प, साँप ।
 विसहुरु-(हि. पुं.) मोल लेनेवाला ।

विसहिनी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की चिड़िया ।
 विसाख-(हि. स्त्री.) देख 'विशाखा' ।
 विसात-(अ. स्त्री.) फैलाव, चौसर आदि खेलने का कपड़ा, समाई, समता, सूई, तागा आदि सामग्रियाँ; -खाना-(पुं.) विसाती की दुकान; -खाना-(पुं.) विसात की सामग्रियाँ ।
 विसाती-(हि. पुं.) विसात की चीजें बेचनेवाला ।
 विसाना-(हि. क्रि. अ.) बश चलना, बश में होना, विष का प्रभाव होना ।
 विसायेंध-(हि. वि.) सड़ी मछली की गन्धवाला; (स्त्री.) सड़ी मछली के समान गन्ध ।
 विसारद-(हि. पुं.) देखें 'विशारद' ।
 विसारना-(हि. क्रि. स.) ध्यान में न रखना, भुलाना ।
 विसारा-(हि. वि.) विपाक्त, विष भरा हुआ ।
 विसास-(हि. पुं.) विश्वास ।
 विसासिन, विसासिनि-(हि. वि., स्त्री.) (स्त्री) जिस पर विश्वास न किया जा सके, विश्वासघातिनी ।
 विसासो-(हि. वि.) छली, कपटी, जिस पर विश्वास न किया जा सके ।
 विसाह-(हि. पुं.) क्रय ।
 विसाहना-(हि. क्रि. स.) मोल लेना, अपने हाथ में करना; (पुं.) मोल ली हुई वस्तु, मोल लेने की क्रिया ।
 विसाहनी-(हि. स्त्री.) वस्तु जो मोल ली जाय, सौदा ।
 विसाहा-(हि. पुं.) मोल ली हुई वस्तु, सौदा ।
 विसिख-(हि. पुं.) देख 'विसिख' ।
 विसिथर-(हि. वि.) विपैला ।
 विमुनना-(हि. क्रि. अ.) खाते समय किसी वस्तु का नाक की ओर चढ़ जाना ।
 विमु(सू) रना-(हि. क्रि. अ.) चिन्ता करना, सोच करना; (स्त्री.) चिन्ता ।
 विसेश-(हि. वि.) देखें 'विशेष' ।
 विसेजना-(हि. क्रि. अ.) व्योरेवार वर्णन करना, निश्चित करना, विशेष रूप से होना ।
 विसेन-(हि. पुं.) धात्रियों की एक शाखा ।
 विसेसर-(सं. पुं.) देखें 'विश्वेश्वर' ।
 विस्तर-(हि. पुं.) विछोना, विस्तार, बढ़ाव ।
 विस्तरना-(हि. क्रि. स.) विस्तार-पूर्वक वर्णन करना या कहना, विस्तार होना, फैलना, बात को बढ़ाकर कहना ।
 विस्तारना-(हि. क्रि. स.) विस्तार करना, फैलाना ।
 विस्तुइपा-(हि. स्त्री.) गृहगोपा, छिपकली ।
 विस्या-(हि. पुं.) एक वीष का बीमयाँ भाग ।
 विस्यादार-(हि. पुं.) पट्टीदार ।

विस्वास-(हि. पुं.) देखें 'विश्वास' ।
 विहंग-(हि. पुं.) देखें 'विहंग', पक्षी ।
 विहङ्गना-(हि. क्रि. अ.) टुकड़े-टुकड़े करना, तोड़ना, नष्ट करना, काटना, मार डालना ।
 विहँसना-(हि. क्रि. अ.) मुस्कराना, मन्द हास करना, प्रफुल्ल होना, फूल का खिलना ।
 विहँसाना-(हि. क्रि. स.) प्रफुल्ल करना, खिलाना ।
 विहंग-(हि. पुं.) देखें 'विहंग', पक्षी ।
 विहतर-(हि. वि.) अधिक अच्छा ।
 विहतरौ-(हि. स्त्री.) कुशल, मलाई ।
 विहद्-(हि. वि.) वैहद, परिमाण से अधिक ।
 विहवल-(हि. वि.) विह्वल, व्याकुल ।
 विहरना-(हि. क्रि. अ.) भ्रमण करना, घूमना-फिरना, सैर करना, विदीर्ण होना, फटना, फटना, टूटकर अलग होना ।
 विहराना-(हि. क्रि. अ.) फटना ।
 विहरी-(हि. स्त्री.) अंशदान, चंदा ।
 विहाग-(हि. पुं.) एक राग का नाम ।
 विहागड़ा-(हि. पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग ।
 विहान-(हि. पुं.) प्रातःकाल, सबेरा; (अव्य.) आनेवाला काल ।
 विहाना-(हि. क्रि. अ., व.) त्यागना, छोड़ना, बीतना ।
 विहारना-(हि. क्रि. अ.) विहार करना, केलि या क्रीड़ा करना ।
 विहाल-(हि. वि.) व्याकुल ।
 विहि-(हि. स्त्री.) देखें 'विवि' ।
 विहीन, विहून-(हि. वि.) विहीन, रहित, बिना ।
 विहोरना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'विह्वलना' ।
 वींण, वींण्डा-(हि. पुं.) कच्चे कुएँ की नीत गिरने से रोकने के लिये लगाया हुआ टहनियों आदि का मेंटरा, घास आदि की बनी हुई मेंटरी, एक प्रकार का गोल आसन, पिण्ड, पिंडी, लकड़ी या बाल का बेंका हुआ गठ्ठर ।
 वींण्डिया-(हि. पुं.) तीन बेंगों की गाड़ी में मय से आगे जोना हुआ बेल ।
 वींड़ी-(हि. स्त्री.) सूत की वह लकी जो किसी वस्तु पर लपेटकर बनाई जाती है ।
 वींधना-(हि. क्रि. स.) बेंचना, ऐंरना ।
 वीधन-(हि. वि.) बध, देड़ा ।
 वीध-(हि. पुं.) पद, कदम, धग ।
 वीष-(हि. पुं.) नैऋत्या ।
 वीषना-(हि. क्रि. अ.) फैलाना, छिन्नरना छाँटना, गिराना ।

वीगहाटी-(हि. स्त्री.) वीघे के हिसाब से लगाया जानेवाला लगान।
 वीघा-(हि. पुं.) खेत का क्षेत्रफल या वर्गमान जो वीस विस्व का होता है।
 वीच-(हि. पुं.) किसी पदार्थ का मध्य भाग, अवकाश, अन्तर, अवसर, भेद; (अव्य.) वीच में; (मुहा.)-खेत-खुले मैदान, सब के सामने; -पड़ना-झगड़ा निवटाने के लिये मध्यस्थ बनना; -वीच में-(अव्य.) थोड़ी-थोड़ी देर बाद; -में कूदना-निरर्थक विघ्न डालना; -में डालना-उलट-फेर करना; -में पड़ना-विचवई या मध्यस्थ होना, (ईश्वर को); -में रखकर कहना-शपथ खाना।
 वीचू-(हि. पुं.) अन्तर, अवसर।
 वीचोवीच-(हि. अव्य.) बिलकुल मध्य या वीच में।
 वीछना-(हि. क्रि. स.) चुनना, छांटना।
 वीछी, वीछ-(हि. पुं.) देखें 'विच्छू', विछुआ।
 वीज-(सं. पुं.) प्रधान कारण, शुक्र, वीया, वृक्ष, आदि के पौधे फल के दाने, वीज-गणित, मूल प्रकृति, मूल, जड़, देवताओं के मूल-मन्त्र; -क-(पुं.) वह सूची जिसमें माल का व्योरा, मूल्य आदि लिखा हो, वीज, गड़े हुए धन की सूची जो उसके साथ रहती है, असना का वृक्ष, विजौरा नीवू, कवीरदास के पदों के तीन संग्रहों में से एक; -कूर्ता-(पुं.) शिव, महादेव; -क्रिया-(स्त्री.) वीजगणित से सवाल लगाने की क्रिया; -गणित-(पुं.) गणित का वह भेद जिसमें अक्षरों को संख्या का द्योतक मानकर अज्ञात संख्याएँ आदि जानी जाती हैं; -गुप्त-(स्त्री.) सेम, धान की भूसी; -स्व-(पुं.) वीज उपजने का भाव या धर्म; -घान्य-(पुं.) धान्यक, धनिया; -पूर, -पूरक-(पुं.) विजौरा नीवू; -पेशिका-(स्त्री.) अण्डकोप; -वंद-(पुं.) खरियारा का वीज; -मंत्र-(पुं.) भिन्न-भिन्न देवताओं के उद्देश्य से निर्दिष्ट मूल-मन्त्र; -मातृका-(स्त्री.) कमल-गुटा; -रत्न-(पुं.) उड़द की दाल; -ल-(वि.) वीजयुक्त, जिसमें वीज हो; (हि. स्त्री.) तलवार; -वर-(पुं.) एक प्रकार का उड़द; -दाहन-(पुं.) शिव, महादेव; -वृक्ष-(पुं.) असना का पेड़।
 विजांकुर-(सं. पुं.) प्रथम अंकुर, अँखुआ।
 वीजा-(हि. वि.) दूसरा।
 वीजादर-(सं. पुं.) किसी वीज-मन्त्र का पहला अक्षर।

वीजाध्यक्ष-(सं. पुं.) शिव, महादेव।
 वीजित-(सं. वि.) बोया हुआ।
 वीजी-(हि. स्त्री.) गिरी, मींगी, गुठली।
 वीजु-(हि. स्त्री.) विजुली, विद्युत्; -पात-(पुं.) देखें 'वज्रपात'।
 वीजुरी-(हि. स्त्री.) देखें 'विजली'।
 वीज-(हि. वि.) जो (वृक्ष) वीज से उत्पन्न हो।
 वीझना-(हि. क्रि. अ.) लिप्त होना, फँसना।
 वीझा-(हि. वि.) निर्जन, एकांत।
 वीट-(हि. स्त्री.) पक्षियों की विण्ठा, मल, गू।
 वीठल-(हि. पुं.) देखें 'विट्ठल'।
 वीड-(हि. स्त्री.) एक के ऊपर एक रखे हुए रूपों की गड़डी।
 वीडा-(हि. पुं.) पानकी गिलौरी, खिल्ली; (मुहा.)-उठाना-किसी काम को करने के लिये उद्यत होना।
 वीडिया-(हि. पुं.) वीडा उठानेवाला, अगुआ।
 वीडी-(हि. स्त्री.) वीडा, गड़डी, वीड, मिस्सी जिसको स्त्रियाँ दाँतों पर मलती हैं, शहतूत के सूखे पत्ते में लपेटा हुआ सुरती का चूरा जिसको जलाकर लोग सिगरेट की तरह पीते हैं, एक प्रकार की नाव।
 वीतना-(हि. क्रि. अ.) समय का व्यतीत होना, घटित होना, घटना, दूर होना, छूट जाना, पड़ना।
 वीता-(हि. पुं.) देखें 'वित्ता'।
 वीथित-(हि. वि.) व्यथित, दुःखित।
 वीथी-(हि. स्त्री.) देखें 'वीथी'।
 वीवना-(हि. क्रि. अ.) फँसना, देखें 'वीघना'।
 वीन-(हि. स्त्री.) वीणा, सितार की तरह का एक वाजा जिसके दोनों ओर बड़-बड़े तूँबे लगे रहते हैं।
 वीनना-(हि. क्रि. स.) अन्न आदि से छोटी-छोटी, कंकड़ियों को एक-एक करके निकालना, चुनना, छांटकर अलगाना, चुनना।
 वीफ-(हि. पुं.) वृहस्पतिवार, गुरुवार।
 वीवी-(हि. स्त्री.) भले घर की स्त्री, कुलांगना, स्त्री, बेटी, छोटी ननद।
 वीभत्स-(सं. पुं.) काव्य के नौ रसों में से एक रस जिसमें ऐसी बातों का वर्णन होता है जिससे अरुचि और घृणा उत्पन्न होती है; (वि.) क्रूर, पापी।
 वीभत्सित-(सं. वि.) घृणित, निन्दित।
 वीभत्सु-(सं. पुं.) अर्जुन का एक नाम।
 वीभा-(फा. पुं.) मृत्यु, दुर्घटना आदि की हानि-पूति के निमित्त विशिष्ट संस्था

द्वारा नियत धन देने की जिम्मेदारी या वह धन पाने का अधिकार।
 वीमार-(फा. वि.) रोगग्रस्त, रोगी।
 वीमारी-(फा. स्त्री.) रोग, लत।
 वीय-(हि. वि.) देखें 'वीजा', दूसरा।
 वीया-(हि. वि.) द्वितीय, दूसरा; (पुं.) वीज, दाना।
 वीर-(हि. वि.) देखें 'वीर'; (पुं.) भ्राता, भाई; (स्त्री.) सखी, सहली, कान में पहनने का एक आभूषण, पशुओं के चरने का स्थान, चरागाह।
 वीरउ-(हि. पुं.) देखें 'विरवा'।
 वीरज-(हि. पुं.) देखें 'वीर्य'।
 वीरन-(हि. पुं.) भ्राता, भाई।
 वीरनि-(हि. स्त्री.) कान में पहिनने का एक गहना।
 वीरबहूटी-(हि. स्त्री.) गहरे लाल रंग का एक छोटा कीड़ा जो वरसात के आरंभ में खेतों या मैदानों में रेंगता हुआ दिखाई पड़ता है, इन्द्रगोप।
 वीरा-(हि. पुं.) देखें 'वीडा', देवता का प्रसाद जो भक्तों को बाँटा जाता है।
 वीरी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कान में पहनने का आभूषण या गहना, लोहे का छेदवाला टुकड़ा जिस पर रखकर लोहार किसी लोहे आदि में छेद करते हैं।
 वीरी-(हि. पुं.) वृक्ष, पेड़।
 वील-(हि. वि.) पोला; (पुं.) वह नीची भूमि जिसमें पानी भरा रहता है, बल।
 वीस-(हि. वि.) दस की दूनी संख्या का; (पुं.) दस की दूनी संख्या, २०; -वाँ-(वि.) वीस के स्थान पर पड़नेवाला।
 वीसना-(हि. क्रि. स.) चौसर आदि खेलने के लिये विसात फैलाना।
 वीसरना-(हि. क्रि. स.) भूलना।
 वीसी-(हि. स्त्री.) वीस वस्तुओं का समूह, कोड़ी, ज्योतिष के अनुसार साठ संवत्सरों के तीन विभागों में से एक विभाग, प्रति वीघे दो विस्वे की उपज जो भूस्वामी को दी जाती थी; (पुं.) तौलने का काँटा।
 वीहड़-(हि. वि.) विपम, ऊँचा-नीचा, जो समतल न हो, विकट, पृथक्।
 वृंद-(हि. स्त्री.) वृंद, ठोप, वीर्य; (पुं.) तीर; (वि.) थोड़ा-सा।
 वृंदकी-(हि. स्त्री.) गोल छोटी बिंदी, छोटा गोल चिह्न या धव्वा; -दार-(वि.) जिस पर वृंदकियाँ बनी या पड़ी हों।
 वृंदान-(हि. पुं.) छोटी-छोटी दूँदों की वर्षा

बुँदा—(हि. पुं.) कान में पहिने का एक गहना जो बुलाक के आकार का होता है, लोलक, माथ पर लगाने की बड़ी टिकली, बड़ी टिकली के आकार का गोदना ।

बुँदिया—(हि. स्त्री.) देखें 'बुँदी' ।

बुँदीदार—(हि. वि.) जिसपर छोटी-छोटी विदियाँ बनी या लगी हों ।

बुँदेलखंड—(हि. पुं.) बुँदेलों का देश जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिले और पंजाब का थोड़ा-सा पूरबी भाग है ।

बुँदेलखंडी—(हि. वि.) बुँदेलखंड का; (स्त्री.) बुँदेलों की मापा ।

बुँदेली—(हि. पुं.) राजपूतों का एक भेद ।

बुँदोरी—(हि. स्त्री.) बुँदी या बुँदिया नाम की मिठाई ।

बुआ—(हि. स्त्री.) देखें 'बूआ' ।

बुक—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कलफ किया हुआ महीन कपड़ा ।

बुकचा—(हि. पुं.) वह गठरी जिसमें कपड़े बंधे हों ।

बुकची—(हि. स्त्री.) छोटी गठरी, दर्जियों की वह थैली जिसमें वे सूई, डोरा आदि रखते हैं ।

बुकनी—(हि. स्त्री.) महीन पिसा हुआ चूर्ण, रंग का महीन चूर्ण जिसको पानी में घोलकर कपड़े आदि रंगते हैं ।

बुकवा—(हि. पुं.) उवटन ।

बुकस—(हि. पुं.) भंगी, मेहतर ।

बुका—(हि. पुं.) देखें 'बुकका' ।

बुकुना—(हि. पुं.) बुकनी, पाचक चूर्ण ।

बुकक—(सं. पुं.) छाग, वकरा, हृदय ।

बुककन—(सं. पुं.) कुत्ते का भूकना ।

बुककस—(सं. पुं.) चांडाल ।

बुकका—(हि. पुं.) अन्नक का चूर्ण ।

बुककार—(सं. पुं.) सिंह का गरजना ।

बुखार—(अ. पुं.) ज्वर ।

बुग—(हि. पुं.) मच्छड़ ।

बुगचा—(हि. पुं.) देखें 'बुकचा' ।

बुगदर—(हि. पुं.) मच्छड़ ।

बुगिअल—(हि. पुं.) पशुओं के चरने का स्थान, चरागाह ।

बुजनी—(हि. स्त्री.) कान में पहिने का एक गहना ।

बुजुगं—(फा.वि.पुं.) बड़ा, बूढ़, गुरुजन ।

बुजुगी—(फा.स्त्री.) बड़प्पन, बड़ाई ।

बुझना—(हि. क्रि. अ.) (आग आदि का) जलना बंद होना, चित्त का उत्साह मन्द पड़ना, गरम वस्तु का पानी पड़कर ठंडा होना, प्यास मिटना, शांत होना, बुझाया

जाना ।

बुझाई—(हि.स्त्री.) बुझाने की क्रियाया भाव ।

बुझाना—(हि. क्रि. स.) जलते हुए पदार्थ को ठंडा करना, तपे हुए पदार्थ को पानी में डालकर ठंडा करना, सन्तोष देना, प्यास मिटाना, बुझाने का काम दूसरे से कराना, विपैले पानी में छौंकना, चित्त के आवेग को शान्त करना, संतोष देना, समझाना, बोध कराना ।

बुझारत—(हि. स्त्री.) गाँव के मूस्वामी के वार्षिक आय-व्यय का लेखा ।

बुट—(हि. स्त्री.) देखें 'बूटी' ।

बुटना—(हि. क्रि. अ.) भागना ।

बुडकी—(हि. स्त्री.) डुवकी, गोता ।

बुडना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'डुवना' ।

बुडबुडाना—(हि. क्रि. अ., स.) कुढ़कर अस्पष्ट रूप से बोलना, बड़बड़ करना ।

बुडाना—(हि.क्रि.स.) डुवाना, गोता देना ।

बुडाव—(हि. पुं.) देखें 'डुवाव' ।

बुड्ढा—(हि. वि.) (स्त्री. बुड्ढी) पचास-साठ वर्ष से अधिक अवस्था का, बूढ़ा, जिसका शरीर, बल आदि क्षीण हो गया हो ।

बुडना—(हि. पुं.) पत्थरफूल, छड़ीला ।

बुडवा—(हि. वि.) (स्त्री. बुडिया) देखें 'बुड्ढा' ।

बुडाई—(हि. स्त्री.) बूढ़ावस्था, बुढ़ापा ।

बुढ़ाना—(हि. क्रि. अ.) बूढ़ावस्था को प्राप्त होना, बुड्ढा होना ।

बुढ़ापा—(हि. पुं.) बुड्ढा होने की अवस्था, बूढ़ावस्था ।

बुढ़ौती—(हि. स्त्री.) बूढ़ावस्था, बुढ़ापा ।

बुत—(फा.पुं.) मूर्ति, प्रतिमा; (वि.) जड़वत् ।

बुतना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'बुझना' ।

बुताना—(हि. क्रि. स.) देखें 'बुझाना' ।

बुस्त—(हि. वि.) देखें 'बुत' ।

बुस्ता—(हि. पुं.) बहाना, धोखा, पट्टी ।

बुदबुद—(सं. पुं.) बुलबुला, बुल्ला ।

बुदबुदा—(हि. पुं.) बुलबुला, बुल्ला ।

बुद्ध—(सं. पुं.) भगवान् के नवें अवतार

माने जानवाले बौद्ध धर्म के प्रवर्तक शाक्य मुनि जो राजा शुद्धोदन के पुत्र थे; (वि.) जागरित, जागा हुआ, ज्ञानवान्, ज्ञानी, विद्वान्, पण्डित ।

बुद्धत्व—(सं. पुं.) बुद्ध का भाव या धर्म ।

बुद्धि—(सं. स्त्री.) मन की वह शक्ति जिसके अनुसार मनुष्य किसी वस्तु या विषय के संबंध में ठीक-ठीक विचार या निर्णय करता है, ज्ञान, एक प्रकार का छन्द जिसको लक्ष्मी भी कहते हैं, छप्पय का एक भेद, उपजाति वृत्त का

एक भेद; -कामा—(स्त्री.) कार्ति-केय की एक मातृका का नाम; -चक्षु—(पुं.) प्रज्ञाचक्षु, धृतराष्ट्र; -जीवी—(वि.) वह जो बुद्धि द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करता हो; -पर—(वि.) बुद्धि से अतीत, जहाँ बुद्धि न पहुँच सके; -पूर्ण—(वि.) जो ज्ञान-वृद्धकर किया गया हो; -मत्ता—(स्त्री.) बुद्धिमान होने का भाव; -मान्—(वि.) (वह) जो बहुत समझदार हो; -मान्नी—(हि. स्त्री.) देखें 'बुद्धिमत्ता'; -वंत—(हि. वि.) बुद्धिमान्; -शक्ति—(स्त्री.) मेधा-शक्ति; -शाली, -शील—(वि.) बुद्धि-मान्; -शुद्ध—(वि.) अच्छी बुद्धि वाला; -सहाय—(पुं.) मन्त्री, वजीर; -हृत, -हीन—(वि.) निर्वुद्धि, जिसे बुद्धि न हो ।

बुदबुद—(सं. पुं.) बुलबुला, बुल्ला ।

बुधगड़—(हि. पुं.) मूख मनुष्य ।

बुध—(सं. पुं.) विद्वान्, पण्डित, नवग्रह के अन्तर्गत चौथा ग्रह जो सूर्य से अति समीप है, सूर्यवंशीय एक राजा का नाम; -जायी—(पुं.) चन्द्रमा, बुध के पिता; -तात—(पुं.) चन्द्रमा; -रत्न—(पुं.) मरकत मणि; -वान—(हि. वि.) बुद्धिमान्, पण्डित; -वार—(पुं.) बुधग्रह का दिन, सातवारों में से एक वार जो मंगलवार के बाद और गुरुवार के पहले होता है ।

बुधा—(सं. स्त्री.) जटामासी ।

बुधान—(सं. पुं.) गुरु, प्रियवादी, कवि ।

बुधि—(हि. स्त्री.) देखें 'बुद्धि' ।

बुधित—(सं. वि.) ज्ञात, जाना हुआ ।

बुधिल—(सं. वि.) विद्वान्, पण्डित ।

बुनना—(हि. क्रि. स.) रूई, रेशम आदि के सूत से कपड़ा, मोजा, गुलबंद आदि तैयार करना ।

बुनाई—(हि. स्त्री.) बुनने की क्रिया या भाव, बुनने का शुक ।

बुनावट—(हि. स्त्री.) बुनने में सूतों के विन्यास का ढंग, बुनाई ।

बुनियाद—(फा. स्त्री.) जड़, मूल, नीवें ।

बुबुकना—(हि. क्रि. अ.) तज वा उच्च स्वर में रोना, पुकका छोड़ना ।

बुबुकारी—(हि. स्त्री.) उच्च स्वर में रोना ।

बुबुधान—(सं. पुं.) आचार्य, पण्डित ।

बुभुक्षा—(सं. स्त्री.) क्षुधा, खाने की इच्छा ।

बुभुक्षित—(सं. वि.) क्षुधित, भूखा ।

बुभुक्षु—(सं. वि.) जिसको भोजन करने की इच्छा हो, क्षुधित ।

वृभूषक—(सं. वि.) यश की इच्छा करनेवाला ।
 वृभूषा—(सं. स्त्री.) यश की इच्छा ।
 वृरकना—(हिं. क्रि. स.) चूर्ण अथवा पिंसी हुई वस्तु को दूसरी वस्तु पर हाथ से धीरे-धीरे छिड़कना, मुरमुराना; (पुं.) लड़कों की दावात जिसमें वे खड़िया घोलकर पटरी पर लिखते हैं ।
 वृरकाना—(हिं. क्रि. स.) मुरमुराने या छिड़कने का काम दूसरे से कराना ।
 वुरा—(हिं. वि.) निकृष्ट, खराब, खोटा, अनैतिक; (मुहा.)—मानना—द्रेष रखना;—भला-बुरा—(पुं.) हानि-लाम, गाली-गलौज;—ई—(स्त्री.) दुष्टता, नीचता, खोटापन, अवगुण, दोष, निन्दा, किसी के संबंध में कही हुई निन्दा की बात;—पन—(पुं.) देखें 'बुराई' ।
 वृरल—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बहुत बड़ा वृक्ष ।
 वृरलाना—(हिं. क्रि. स.) बुलाने का काम दूसरे से करवाना ।
 वृरलक—(हिं. पुं.) एक लंबोतरा या सुराहीदार मोती जिसको स्त्रियाँ नथ में या दोनों नथनों के बीच के परदे में पहनती हैं ।
 वृरलकी—(हिं. पुं.) घोड़ की एक जाति ।
 वृरलाना—(हिं. क्रि. स.) पुकारना, किसी को अपने पास आने के लिये कहना ।
 वृरलाया—(हिं. पुं.) बुलाने की क्रिया या भाव, निमन्त्रण ।
 वृरलाह—(हिं. पुं.) वह घोड़ा जिसकी गरदन और पूँछ पर के बाल पीले हों ।
 वृरलावा (वा)—(हिं. पुं.) देखें 'बुलावा' ।
 वृरलन—(हिं. पुं.) मुख, चेहरा, बुल्ला ।
 वृरला—(हिं. पुं.) बुद्बुद, बुलबुला ।
 वृरुप, वृरुस—(सं. पुं.) अनाज के ऊपर का छिलका, भूसी ।
 वृरुरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'बहुरी' ।
 वृरुराना—(हिं. क्रि. स.) झाड़ू देना, झाड़कर साफ करना ।
 वृरुरी—(हिं. स्त्री.) झाड़ू, बढनी, सोहनी ।
 वृरुद—(हिं. स्त्री.) जल आदि का थोड़ा अंश जो गिरते समय छोटी-सी गोली या दाने का रूप धारण करता है, एक प्रकार का रंगीन देशी कपड़ा, बीर्य, शुक; (मुहा.) वृरुद गिरना—अल्प वृष्टि होना, झोसी पड़ना ।
 वृरुदा—(हिं. पुं.) बड़ी फिकली, सुराही-दार या लंबोतरा मोती जो स्त्रियाँ कान या नाक में पहनती हैं ।
 वृरुदावृदी—(हिं. स्त्री.) अल्प वृष्टि, हलकी वर्षा ।
 वृरुदी—(हिं. स्त्री.) वर्षा की वृद्ध, एक प्रकार

की मिठाई, बुंदिया ।
 वृरुधा—(हिं. स्त्री.) पिता की वहिन, फूफी, बड़ी वहन ।
 वृरुई—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का पौधा जिसको जलाकर सज्जीखार निकाला जाता है ।
 वृरुक—(हिं. पुं.) माजूफल की जाति का एक बड़ा वृक्ष, चंगुल, वकोटा ।
 वृरुकना—(हिं. क्रि. स.) किसी पदार्थ को पीसकर महीन चूर्ण करना, अपने को अधिक योग्य प्रमाणित करने के लिये बढ़कर बातें करना ।
 वृरुका—(हिं. पुं.) नदी के हटने से निकली हुई भूमि ।
 वृरुगा—(हिं. पुं.) भसा ।
 वृरुगड़—(हिं. पुं.) कसाई, मांस बेचने-वाला;—खाना—(पुं.) कसाईखाना ।
 वृरुचा—(हिं. वि.) जिसके कान कटे हों, कनकटा, वह जो किसी अंग के कट जाने के कारण भद्दा और कुरूप दिखाई पड़ता हो ।
 वृरुची—(हिं. पुं.) वह भेड़ जिसके कान बाहर न निकले हों ।
 वृरुजना—(हिं. क्रि. स.) घोखा देना, छिपाना ।
 वृरुक्ष, वृरुक्षन—(हिं. स्त्री.) बुद्धि, समझ, ज्ञान, पहेली ।
 वृरुक्षना—(हिं. क्रि. स.) जानना, समझना, प्रश्न करना, पूछना ।
 वृरुट—(हिं. पुं.) चने का हरा पौधा, चने का हरा दाना, होरहा, वृक्ष, पेड़; (अं. पुं.) फीतेदार अंग्रेजी जूता ।
 वृरुटना—(हिं. क्रि. अ.) भागना ।
 वृरुटनि—(हिं. स्त्री.) वीरवहूटी नाम का कीड़ा ।
 वृरुटा—(हिं. पुं.) छोटा वृक्ष, पौधा, (वृक्ष, फल, पत्ते आदि का) चित्र जो कपड़े, भीत आदि पर रंग-विरंगे बनाये जाते हैं, बड़ी बटी ।
 वृरुटी—(हिं. स्त्री.) वनस्पति, जड़ी, वनीपधि, भाँग, ताश पर बनी हुई टिक्की, फल-फूल के छोटे चित्र जो वस्त्रादि पर बनाये जाते हैं ।
 वृरुटना—(हिं. क्रि. अ.) डबना, लीन होना ।
 वृरुडा—(हिं. पुं.) नदी की बाढ़ जो वर्षा के कारण आती है ।
 वृरुद्ध, वृरुद्धा—(हिं. वि.) देखें 'बुद्ध' ।
 वृरुत्ता—(हिं. पुं.) बल, पराक्रम, शक्ति ।
 वृरुना—(हिं. पुं.) चनार नामक वृक्ष ।
 वृरुनना—(हिं. क्रि. अ.) डूबना ।
 वृरुरा—(हिं. पुं.) भूरे रंग की कच्ची

चीनी, शक्कर, महीन चूर्ण ।
 वृरुरी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की बहुत छोटी वनस्पति ।
 वृरुद—(हिं. पुं.) देखें 'वृद' ।
 वृरुच्छ—(हिं. पुं.) वृक्ष ।
 वृरुष—(सं. पुं.) देखें 'वृष' ।
 वृरुहच्छु—(सं. पुं.) लंबी चोंचवाला ।
 वृरुहज्जाल—(सं. पुं.) बड़ा जाल ।
 वृरुहतिका—(सं. स्त्री.) उत्तरीय वस्त्र, उपरना ।
 वृरुहती—(सं. स्त्री.) वनभंटा, उत्तरीय वस्त्र, उपरना, कण्टकारी, भट-कटैया, वाक्य, एक वर्षवृत्त का नाम, विश्वावसु गन्धर्व की वीणा का नाम, वैद्यक के अनुसार एक मर्मस्थान जो पीठ के बीचोबीच रीढ़ के दोनों तरफ है;—कल्प—(पुं.) एक प्रकार का काया-कल्प;—पति—(पुं.) वृहस्पति ।
 वृरुहुत्—(सं. वि.) विशाल, बहुत बड़ा, ऊँचा, दृढ़, पर्याप्त, बलिष्ठ;—कद—(पुं.) गाजर;—कीर्ति—(पुं.) एक असुर का नाम;—कुक्षि—(वि.) बड़ी तोंदवाला;—नृण—(पुं.) बाँस;—पाद—(पुं.) बरगद का पेड़;—पीलु—(पुं.) जंगली अखरोट;—पुष्प—(पुं.) केले का पेड़;—पुष्पी—(स्त्री.) सनई का पौधा;—फल—(पुं.) कुम्हड़ा, कटहल;—फला—(स्त्री.) तितलोकी ।
 वृरुहदंग—(सं. पुं.) मतंगज, हाथी ।
 वृरुहदन्व—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
 वृरुहदारण्य—(सं. पुं.) शतपथ ब्राह्मण की एक प्रसिद्ध उपनिषद् ।
 वृरुहेला—(सं. स्त्री.) बड़ी इलायची ।
 वृरुहली—(सं. स्त्री.) लज्जावंती, लजालू ।
 वृरुहधन—(सं. पुं.) अपार धन, बड़ी धन-दौलत ।
 वृरुहदल—(सं. पुं.) बड़ा हल ।
 वृरुहद्वीज—(सं. पुं.) आभ्रातक, आमड़ा ।
 वृरुहद्भानु—(सं. पुं.) सत्यमामा के एक पुत्र का नाम, अग्नि, चित्रक वृक्ष ।
 वृरुहद्वथ—(सं. पुं.) इन्द्र, यज्ञ-पात्र, शत-घन्वा के पुत्र का नाम, जरासन्ध के पिता का नाम, परीक्षित के पुत्र का नाम ।
 वृरुहद्वयस्—(सं. वि.) अधिक बयवाला ।
 वृरुहद्वर्ण—(सं. पुं.) सोनामाखी ।
 वृरुहद्वल्लो—(सं. स्त्री.) करेला ।
 वृरुहन्नल—(सं. पुं.) बड़ा नरकट, बाहु, बाँह, अर्जुन का एक नाम ।
 वृरुहन्नला—(सं. स्त्री.) अर्जुन का वह नाग जो उन्होंने अज्ञातवास के समय

वारण किया था जब वह स्त्री के वेश में रहकर राजा विराट् की कन्या को नाच-गाना सिखलाते थे।
वृहन्नारायण-(सं. पुं.) एक उपनिषद् का नाम।
वृहन्नेत्र-(सं. वि.) बड़ी-बड़ी आँखोंवाला, दूरदर्शी।
वृहस्पति-(सं. पुं.) अंगिरा के पुत्र और देवताओं के गुरु, सौर जगत् का एक देवता; -वार-(पुं.) गुरुवार, वीफै।
वेग-(हि. पुं.) भेक, भेदक।
वेगा-(हि. पुं.) वह बीज जो किसानों को बोने के लिये सवाई पर दिया जाता है।
वैठ(ट)-(हि. पुं.) मूठ।
वेड़-(हि. पुं.) वह भेड़ा जो छोड़ दिया जाता है; (स्त्री.) चाँड़, टेक।
वेड़ना-(हि.क्रि.स.) वन्द करना, घेरना।
बेड़ा-(हि. वि.) आड़ा, तिरछा, कठिन।
बेड़ी-(हि. स्त्री.) वाँस की बनी हुई एक प्रकार की टोकरी।
वैत-(हि. पुं.) एक लता जिसका डंठल लचीला और मजबूत होता है; (मुहा.) -की तरह काँपना-डर से थर-थर काँपना।
वैदली-(हि. स्त्री.) माथे पर लगाने की विदी, टिकली।
वैदा-(हि. पुं.) माथे पर का तिलक, टीका, स्त्रियों का माथे पर पहनने का एक प्रकार का आभूषण, टिकली के आकार का एक गहना।
वैदी-(हि. स्त्री.) टिकली, विदी, वैदा नामक आभूषण, शून्य, चुन्ना।
वै-(हि. अव्य.) अरे, अवे; (फा.) विना, वगैर, सिवाय।
वैअंत-(हि.वि.) जिसका अन्त न हो, वेहद।
वैअदव-(फा. वि.) वड़ों का अदव या सम्मान न करनेवाला।
वैअदवी-(फा.स्त्री.)वैअदवका-सा बरताव।
वैअजत-(फा. वि.) विना अजत या सम्मान का।
वैअजती-(फा.स्त्री.)अपमान,अप्रतिष्ठा।
वैअलि-(हि. पुं.) देखें 'वैला'।
वैअमान-(फा.वि.)विनाईमानवाला,असद्।
वैअमानी-(फा. स्त्री.) वदनीयती।
वैकनाट-(सं. पुं.) सूदखोर।
वैकरा-(हि. पुं.) चौपायों का एक रोग।
वैकल-(हि. वि.) व्याकुल, व्यग्र।
वैकली-(हि. स्त्री.) व्यग्रता, घबड़ाहट।
वैकहा-(हि. वि.) जो किसी का कहना न मानता हो।

वैकाम, वैकार-(हि.वि.)जो किसी काम का न हो, निकम्मा, निरर्थक, व्यर्थ।
वैकारी-(हि. स्त्री.) वैकार होने की स्थिति, भाव आदि।
वैकुरा-(सं.स्त्री.)एक प्रकार का वाजा।
वैखटक(के)-(हि. अव्य.) विना किसी प्रकार के खटका या रुकावट के, विना संकोच या असमंजस के, विना आगा-पीछा सोचे हुए।
वैखुर-(हि. पुं.) एक प्रकार की चिड़िया।
वैग-(हि. पुं.) देखें 'वैग', (चमड़े, कपड़े आदि का बना हुआ थैला।)
वैगड़ी-(हि. पुं.) नगीना बनानेवाला।
वैगना-(हि. क्रि. अ.) शीघ्रता करना।
वैगम-(तु.स्त्री.)अमीर या सामंत घरानी की महिला, रानी, पत्नी, रानी की शक्लवाला ताश का पत्ता।
वैगर-(हि. पुं.) अचार में मिलाया हुआ मसाला।
वैगवती-(सं.स्त्री.)एक वर्ण-वृत्त का नाम।
वैगसर-(हि. पुं.) खच्चर।
वैगि-(हि.अव्य.)शीघ्रता से, तुरत।
वैगुनी-(हि.स्त्री.)एक प्रकार की सुराही।
वैचक-(हि. पुं.) वैचनेवाला।
वैचना-(हि. क्रि. स.) विक्रय करना, मूल्य लेकर कोई पदार्थ देना।
वैचवाना, वैचाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'विक्रवाना'।
वैक्षड़ा-(हि.पुं.)गेहूँ,जव,चना, मटर आदि में से दो, तीन या सब मिले हुए अन्न।
वैक्षना-(हि. क्रि. स.) देखें 'वैचना'।
वैक्ष्ना-(हि. पुं.) लक्ष्य।
वैटकी-(हि. स्त्री.) वैटी, लड़की।
वैटला(वा)-(हि. पुं.) वैटा, पुत्र।
वैटा-(हि. पुं.) पुत्र, लड़का।
वैटी-(हि. स्त्री.) पुत्री, लड़की।
वैटीना-(हि. पुं.) वैटा।
वैठन-(हि. पुं.) कपड़े का टुकड़ा जो किसी वस्तु को लपेटने के काम में आता है, बँधना।
वैठिकाना-(फा. वि.) जिसका पता-ठिकाना न हो, अज्ञात निवासवाला।
वैठिकाने-(हि. वि., अव्य.) जो अपने उचित स्थान पर न हो, व्यर्थ, निरर्थक, विना सिर-पैर का, बेमौके।
वैड़-(हि. पुं.) मँड़, थाला, नगद, रूपया।
वैड़ना-(हि. क्रि. स.) मीठ आदि से घेरना, थाला बनाना।
वैड़ा-(हि. पुं.) लट्ठे, बाँस आदि एक में बाँधकर बनाया हुआ ढाँचा

जिस पर बैठकर नदी पार करते हैं, तिरना, नाव, बहुत-सी नावों या जहाजों का समूह; (मुहा.) -पार करना-संकट से छुड़ाना।
वैड़िन, वैड़िनी-(हि. स्त्री.) नाचने-गानेवाली नट जाति की स्त्री।
वैड़ी-(हि. स्त्री.) लोहे की कड़ी जो अपराधियों के पैर में पहनाई जाती है जिससे वे स्वतन्त्रतापूर्वक घूम-फिर न सकें, निगड़, बाँस की बनी हुई टोकरी जो पानी उलीचने के काम में लाई जाती है; छोटी नाव, छोटा वेड़ा।
वैडौल-(हि. वि.) मद्दा, (अंग) जो उपयुक्त अनुपात में न हो, वेडंगा।
वैदंग, वैदंगा-(हि. वि.) बुरे ढंग का, कुरूप, मद्दा; -पन-(पुं.) मद्दापन।
वैद-(हि. पुं.) नाश, बोया हुआ बीज जिसमें अंकुर निकल आया हो।
वैदई-(हि. स्त्री.) पीठी आदि भरी हुई कच्चीड़ी।
वैदन-(हि. पुं.) वैदने के लिए बनाया हुआ घेरा।
वैदना-(हि. क्रि. स.) वृक्ष, खेत आदि की रक्षा के निमित्त टट्टी, वाड़ा आदि से घेरना, चौपायों को घेरकर हाँक ले जाना।
वैदव-(हि. वि.) जिसका ढंग अच्छा न हो, जो देखने में ठीक न जान पड़े, मद्दा; (अव्य.) मद्दे ढंग से, बुरी तरह से।
वैड़ा-(हि. पुं.) घर के सामने तरकारी आदि बोने के लिये घेरा हुआ छोटा स्थान, एक प्रकार का हाथ में पहिनने का आभूषण।
वैड़ाजा-(हि. क्रि. स.) घेरना, घिरवाना।
वैणीफूल-(हि. पुं.) फूल के आकार का सिर पर पहिनने का एक प्रकार का गहना, सीसफूल।
वैत-(हि. पुं.) एक प्रकार की लचीली और मजबूत नरकट, टैत।
वैतना-(हि. क्रि. अ.) प्रतीत होना, जान पड़ना।
वैतार-(हि. वि.) विना तार का, जिसमें तार न हो; -का तार-(पुं.) एक वैज्ञानिक आविष्कार जिसमें समाचार, गाने आदि रेडियो के यंत्र से सुने जाते हैं, इसका प्रसारण विद्युत् यंत्र से विना तार के होता है।
वैताल-(हि. पुं.) देगे 'वैताल', नृत योनि विनोद।
वैताला-(हि. वि.) बर वाजा या संगीत

जो ताल का सहगामी न हो।

वेंतुका-(हि. वि.) वेंडगा।

वेंतुका छंद-(हि. पुं.) वह छंद जिसमें अनुप्रास न मिलते हों, अमिताक्षर छन्द।

वेद-(हि. पुं.) देखें 'वेद'।

वेदक-(हि. पुं.) हिन्दू, वेद को माननेवाला।

वेदखल-(फा. वि.) कब्जे में न होनेवाला।

वेदखली-(फा. स्त्री.) कब्जे से निकल जाना।

वेदमाल-(हि. पुं.) लकड़ी की वह पटरी

जिस पर तेल लगाकर सिकलीगर अपना औजार या अस्त्र रगड़कर चमकाते हैं।

वेदाना-(हि. पुं.) एक प्रकार का बढ़िया

कावुली अनार, विहीदाना नामक फल

का बीज; (वि.) मूखें।

वेदाम-(हि. वि.) बिना दाम का,

जिसका कुछ मूल्य न दिया गया हो।

वेधड़क-(हि. अव्य.) बिना किसी प्रकार

के संकोच, भय या आशंका के, निडर

होकर, बिना रक्कावट के, बिना आगा-

पीछासोच-समझे; (वि.) निर्मय, निडर।

वेधना-(हि. क्रि. स.) किसी नुकीली वस्तु

से छेद करना, शरीर में घाव करना।

वेधर्म-(हि. वि.) जिसको अपने धर्म का

ध्यान न हो, धर्म से च्युत।

वेधिया-(हि. पुं.) अंकुश।

वेधीर-(हि. वि.) देखें 'अधीर'।

वेन-(हि. पुं.) वंशी, मुरली, सँपेरे की

तुमड़ी, महवर, एक प्रकार का वृक्ष, बाँस।

वेनग-(हि. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी बाँस।

वेनट-(हि. स्त्री.) बंदूक के अगले सिरे

पर लगी हुई किर्च, संगीत।

वेना-(हि. पुं.) बाँस का बना हुआ छोटा

पंखा, व्यजन, खस, उशीर, बाँस, माथे

पर पहनने का एक प्रकार का गहना।

वेनागा-(हि. अव्य.) निरन्तर।

वेनी-(हि. स्त्री.) स्त्रियों की चोटी,

वेणी, एक प्रकार का घान, (गंगा, यमुना

और सरस्वती का) संगम, त्रिवेणी,

किवाड़ के पत्ते में लगी हुई वह लकड़ी

जो दूसरे पत्ते को खुलने से रोकती है।

वेनु-(हि. पुं.) देखें 'वेणु', वंसी, मुरली, बाँस।

वेनुली-(हि. स्त्री.) जीते या चक्की के

फिल्ले पर रखी हुई वह लकड़ी जिसके

दोनों सिरों पर जोती रहती है।

वेनोटी-(हि. पुं.) कपास के फूल के समान रंग

वेपरद(दा)-(हि. वि.) नंगा।

वेपाइ-(हि. वि.) हृत्कावकका, भीचक।

वेपार, वेपारी-(हि. पुं.) देखें 'व्यापार',

'व्यापारी'।

वेपेंदी-(हि. वि.) बिना पेंदी का, इधर-उधर लुढ़कनेवाला; (मुहा.)-का लोटा-वह मनुष्य जो बारबार अपने विचार को बदलता हो।

वेवस-(हि. वि.) विवश, लाचार, जिसका कुछ वश न चले, परवश, पराधीन।

वेवसी-(हि. स्त्री.) विवशता, पराधीनता।

वेवहा-(हि. वि.) अमूल्य।

वेवाक-(फा. वि.) हिसाब चुकता किया हुआ, पूरा पावना अदा किया हुआ।

वेवाकी-(फा. स्त्री.) चुकती होना, पावने का वाकी न रहना।

वेव्याहा-(हि. वि.) अविवाहित, कुँआरा।

वेम-(हि. स्त्री.) जुलाहों की कधी।

वेमन-(हि. अव्य.) बिना मन लगाये;

(वि.) जिसका मन न लगता हो।

वेमरम्मत-(फा. वि.) जो ठीक या

दुरुस्त हालत में न हो, टूटा-फूटा।

वेमारी-(हि. स्त्री.) देखें 'बीमारी'।

वेमालूम-(हि. अव्य.) बिना किसी को

पता दिये हुए; (वि.) जो मालूम न

पड़ता हो, जिसका पता न लगता हो।

वेमेल-(फा. वि.) जिसमें मेल न हो,

अनमिल, बेजोड़।

वेघरा-(हि. पुं.) देखें 'बेरा'।

वेर-(हि. पुं.) एक कँटीला वृक्ष जिसके

फल मीठे होते हैं, इसका फल; (स्त्री.)

वार, दफा, विलम्ब, देर।

वेरजरी-(हि. स्त्री.) जंगली वेर, झरखेरी।

वेरजा-(हि. पुं.) देखें 'विरोज'।

वेरवा-(हि. पुं.) कलाई पर पहनने का

एक गहना, कड़ा।

वेरा-(हि. पुं.) बला, समय, प्रातःकाल,

तड़का, एक में मिला हुआ चना और जव।

वेरादरी-(हि. पुं.) देखें 'विरादरी'।

वेराम-(हि. वि.) देख 'बीमार'।

वेरामी-(हि. स्त्री.) देखें 'बीमारी'।

वेरिआ-(हि. स्त्री.) समय, बेला।

वेरियाँ-(हि. स्त्री.) समय, काल।

वेरी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की पहाड़ी

लता, एक में मिली हुई सरसों और तीसी,

वेर, उतना अनाज जितना चक्की में एक

वार डाला जाता है, मुट्ठी भर अन्न।

वेरआ-(हि. पुं.) वह बाँस का टुकड़ा

जो नाव खींचने की गून में बँधा होता है।

वेरइ-(हि. स्त्री.) वेश्या, रंडी।

वेरुकी-(हि. स्त्री.) बेलों की जीम में

होनेवाला एक रोग।

वेरूप-(हि. वि.) कुरूप।

वेराँ-(हि. पुं.) एक में मिला हुआ जव

और चना, इसका आटा।

बेलंब-(हि. पुं.) देखें 'विलंब'।

बेल-(हि. पुं.) मझोले आकार का एक

प्रसिद्ध कँटीला वृक्ष जिसके मीठे फल पर

मीटा कड़ा छिलका होता है, बिल्व,

श्रीफल; (स्त्री.) वे छोटे कोमल पौधे

जो अपने बल पर ऊपर नहीं उठ सकते,

लता, बल्ली, सन्तान, वंश, नाव खेने

का डाँड़ा, घोड़े के पैर का एक रोग,

फीते पर बना हुआ जरदोजी या रेशम

का काम, विवाह आदि अवसरों पर

पीरियों को देने का घन; कपड़े, भीत

आदि पर बनी हुई फल-पत्तियाँ;

(फा. पुं.) एक प्रकार की कुदाली,

एक प्रकार का लंबा खुरपा।

बेलक-(हि. पुं.) फरसा, फावड़ा।

बेलकी-(हि. पुं.) चरवाहा।

बेलखजी-(हि. पुं.) एक प्रकार का

लंबा पहाड़ी-वृक्ष।

बेलगिरी-(हि. स्त्री.) बेल के फल का गुदा

बेलड़ी-(हि. स्त्री.) छोटी बेल या लता।

बेलन-(हि. पुं.) रोटी, पूरी आदि बेलने

का उपकरण; लोहे, पत्थर आदि का

गोल भारी टुकड़ा जो अपने अक्ष पर

घूमता है, (इसे सड़क पर कंकड़ बैठाने

तथा समतल करने के काम में लाते हैं),

कोल्हू का जाठ, किसी यन्त्र में लगा

हुआ बेलन के आकार का पुरजा, एक

प्रकार का जड़हन घान, रूई धुनने की

मुठिया या हत्था, कोई लंबा गोल

लुढ़कनेवाला पदार्थ।

बेलना-(हि. पुं.) काठ का गोल लंबा

टुकड़ा जो बीच में मोटा और दोनों ओर

पतला होता है, (यह पूरी, रोटी आदि

बेलने के काम में आता है), देखें 'बेलन';

(हि. क्रि. स.) चकले पर लोई रखकर

बेलन से बढ़ाकर गोल तथा पतला

करना, नष्ट करना, पानी के छींटे

उड़ाना; (मुहा.) पापड़ बेलना-काम

विगाड़ना।

बेलपत्ती, बेलपत्र-(हि. पुं.) बेल के वृक्ष

की पत्ती जो शिवजी को चढ़ाई जाती है।

बेलपात-(हि. पुं.) देखें 'बेलपत्र'।

बेलवागुरा-(हि. पुं.) हिरनों को पकड़ने

का जाल।

बेल-बूटा-(हि. पुं.) कागज, कपड़े आदि

पर बनाये जानेवाले फूल-पत्ते।

बेल-बूटेदार-(हि. वि.) जिसपर बेल-

बूटे बने हों।

बेलसना-(हि. क्रि. अ.) भोग-विलास

करना, सुख लटना ।
बेलहरा—(हि. पुं.) बांस या घातु की बनी हुई लंबोतरी पिटारी जिसमें पान के बीड़े रखे जाते हैं ।
बेलहरी—(हि. पुं.) सांची पान ।
बेलहाजी—(हि. स्त्री.) धोती, दुपट्टे आदि पर किनारा छापने का ठप्पा ।
बेला—(हि. पुं.) एक छोटा पौधा जिसमें सुगन्धित सफेद फूल लगते हैं, मल्लिका, लहर, कटोरा, वायोलिन नाम का बाजा, चमड़े की बनी हुई छोटी कुल्हिया, समुद्र का किनारा; (स्त्री.) बेला, समय ।
बेलाग—(हि. पुं.) जिसमें किसी प्रकार की लिहाज की भावना न हो ।
बेलि—(हि. स्त्री.) देखें 'बेल' ।
बेलिया—(हि. स्त्री.) छोटी कटोरी ।
बेली—(हि. पुं.) संगी, साथी ।
बेलौस—(हि. वि.) सच्चा, खरा ।
बेवपार—(हि. पुं.) देखें 'व्यापार' ।
बेवर—(हि. पुं.) एक प्रकार की घास ।
बेवरा—(हि. पुं.) विवरण, ब्योरा ।
बेवरेबाजी—(हि. स्त्री.) धूर्तता ।
बेवरेवार—(हि. वि.) विवरण सहित ।
बेवसाय—(हि. पुं.) देखें 'व्यवसाय' ।
बेवस्था—(हि. स्त्री.) देखें 'व्यवस्था' ।
बेवहरना—(हि. क्रि. अ.) व्यवहार करना ।
बेवहरिया—(हि. पुं.) लेन-देन का व्यवहार करनेवाला, महाजन ।
बेवहार—(हि. पुं.) देखें 'व्यवहार' ।
बेवाई—(हि. स्त्री.) देखें 'विवाई' ।
बेवान—(हि. पुं.) देखें 'विमान' ।
वेश—(हि. पुं.) देखें 'वेश' ।
वेश्म—(हि. पुं.) देखें 'वेश्म', गृह, घर ।
बेसंदर—(हि. पुं.) देखें 'वेश्वानर', अग्नि ।
बेसंभार—(हि. वि.) बेसुध ।
बेसन—(हि. पुं.) चनेकी दालका महीन आटा ।
बेसनी—(हि. वि.) बेसन का बना हुआ; (स्त्री.) बेसन भरी हुई पूरी ।
बेसर—(हि. स्त्री.) नाक में पहिने की नथ; (पुं.) खच्चर ।
बेसवा—(हि. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
बेसवार—(हि. पुं.) वह सड़ा हुआ मसाला जिससे मद्य बनाया जाता है ।
बेसा—(हि. पुं.) देखें 'वेश'; (स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
बेसारा—(हि. वि.) वैठाने या ठहरानेवाला ।
बेसहना—(हि. क्रि. स.) मोल लेना, झगड़ा आदि अपने ऊपर लेना ।
बेसाह, बेसाहा—(हि. पुं.) माल, सौदा ।
बेसिलसिले—(हि. अव्य.) अव्यवस्थित

रूप या क्रम में ।
बेसी—(हि. वि., अव्य.) अधिक ।
बेसुध—(हि. वि.) अचेत ।
बेसुधी—(हि. स्त्री.) अचेत अवस्था ।
बेसुर—(हि. वि.) (संगीत में) जिसका स्वर ठीक न हो, बेमेल स्वर का ।
बेसुरा—(हि. वि.) जो लययुक्त स्वर में न हो ।
बेस्वाद—(हि. वि.) स्वादरहित, जिसमें अच्छा स्वाद न हो ।
बेहंगम—(हि. वि.) वेदंगा, विकट, बेढव ।
बेहंगमपन—(हि. पुं.) वेदंगापन, मद्दापन ।
बेहंसना—(हि. क्रि. अ.) वेग से हँसना, ठट्ठा मारकर हँसना ।
बेह—(हि. पुं.) ब्रेष, छिद्र, छेद ।
बेहड़—(हि. वि.) देखें 'बीहड़' ।
बेहन—(हि. पुं.) अन्न आदि का बीजधान आदि के रोपने के लिए छोटे पौधे; (वि.) पीला ।
बेहना—(हि. पुं.) जुलाहों की एक जाति जो प्रायः रूई धुनने का काम करती है, धुनियाँ ।
बेहर—(हि. वि.) स्थावर, अचर, पृथक्, अलग; (पुं.) वावली ।
बेहरा—(हि. पुं.) एक प्रकार की घास, मूँज की बनी हुई चिपटी पेटारी; (वि.) पृथक्, अलग ।
बेहराना—(हि. क्रि. अ.) दरार होना, फटना ।
बेहरी—(हि. स्त्री.) किसी विशेष कार्य के लिये बहुत से मनुष्यों से अंशदान के रूप में इकट्ठा किया हुआ धन, चंदा ।
बेहला—(हि. पुं.) सारंगी की तरह का एक प्रकार का अंग्रजी बाजा ।
बेहुनरा—(हि. वि.) जो कोई हुनर या कारीगरी न जानता हो, मूर्ख, तमाशा दिखलानेवाला मालू या बन्दर ।
बेहुन—(हि. अव्य.) सिवाय, बिना ।
बेगन—(हि. पुं.) एक छोटा पौधा जिसके फल तरकारी बनाने के काम में आते हैं, बैंगन, मंटा ।
बैगनी—(हि. वि.) ललाई लिये नीले रंग का; (स्त्री.) बैंगन और बेसन के संयोग से बना हुआ पकवान ।
बैजनी—(हि. वि.) देखें 'बैगनी' ।
बैडा—(हि. वि.) देखें 'बैड़ा' ।
बै—(हि. स्त्री.) बैसर, जुलाहे की कंधी, देखें 'वय'; (अ. स्त्री.) खेत आदि की विन्नी ।
बैकल—(हि. वि.) उन्मत्त, पागल, मूर्ख ।
बैकुठ—(हि. पुं.) देखें 'बैकुंठ' ।
बैखरी—(हि. स्त्री.) देखें 'बैखरी' ।
बैखानस—(हि. वि.) देखें 'बैखानस' ।
बैगन—(हि. पुं.) देखें 'बैंगन', मंटा ।

बैगनी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पकवान; (वि.) देखें 'बैगनी' ।
बैजंती—(हि. स्त्री.) देखें 'वैजयंती', विष्णु की माला, फूल का पौधा विशेष ।
बैजई—(हि. पुं.) एक प्रकार का हलका नीला रंग ।
बैजनाथ—(हि. पुं.) देखें 'वैजनाथ' ।
बैजयंती—(हि. स्त्री.) देखें 'वैजयंती' ।
बैजला—(हि. पुं.) कवड्डी जैसा एक खेल ।
बैजीय—(सं. वि.) बीज-संबंधी ।
बैजेय—(सं. वि.) बीज से उत्पन्न ।
बैटा—(हि. स्त्री.) रूई ओटने की चरखी ।
बैठ—(हि. पुं.) राजकीय कर ।
बैठक—(हि. स्त्री.) बैठने का स्थान, आसन, पीठ, बैठने का ढंग, संग, मेल, एक प्रकार का व्यायाम, वह स्थान जहाँ बहुत से लोग आकर बैठते हों, समासदों का एकत्रित होना, अधिवेशन, बैठने का व्यापार, काँच, घातु आदि की दीवट, साथ उठना-बैठना, किसी मूर्ति या खंभे के नीचे का आधार ।
बैठका—(हि. पुं.) वह चौपाल या दालान जहाँ पर बैठकर लोग बातचीत करते हैं ।
बैठकी—(हि. स्त्री.) बारंबार उठने-बैठने का व्यायाम, आसन, आधार ।
बैठन—(हि. स्त्री.) बैठने की क्रिया या भाव, बैठने का ढंग, बैठक, आसन ।
बैठना—(हि. क्रि. अ.) स्थित होना, आसन जमाना, तौल में ठहरना, कारवार विगड़ना, निरुद्योग रहना, तलछट के रूप में पैदों में जम जाना, पक्षियों का अंडा सेना, अँटना, समाना, रखनी बनकर रहना, पोषे की जड़ का भूमि में लगना, घोड़े आदि पर सवारी करना, निर्दिष्ट लक्ष्य पर लगना, अभ्यस्त होना, ठीक होना, चूल आदि का ठीक कसा जाना, अस्त होना, व्यय होना, लागत लगना, नस आदि का अपनी जगह पर आ जाना, पचक जाना, दबना; बैठते-उठते-हूर अवस्था में; बैठे-बैठाये, बैठे-बैठे-अकारण, अचानक ।
बैठनी—(हि. स्त्री.) करगह का वह स्थान जहाँ बैठकर जुलाहे कपड़ा बुनते हैं ।
बैठवाई—(हि. स्त्री.) बैठाने का शूलक ।
बैठवाना—(हि. क्रि. स.) बैठाने का काम दूसरे से कराना, पेड़ लगवाना ।
बैठा—(हि. पुं.) चमचा, बड़ी करछी ।
बैठाना—(हि. क्रि. स.) बैठना का प्रेरणायक रूप, (सव अर्थों में) ।
बैड़ (ड़) ना—(हि. क्रि. स.) वेड़ना, बन्द करना ।

बैडाल—(सं. वि.) विल्ली-संबन्धी ।
 वैतरनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'वैतरणी', एक प्रकार का अगहनिया धान ।
 बैताल—(हिं. पुं.) देखें 'वैताल' ।
 बैतालिक—(हिं. वि.) देखें 'वैतालिक' ।
 वैद—(हिं. पुं.) देखें 'वैद्य', चिकित्सक ।
 वैदगी, वैदई—(हिं. स्त्री.) वैद्य की विद्या या व्यवसाय ।
 वैदल—(सं. पुं.) दाल की पीठी ।
 वैदूर्य—(हिं. पुं.) देखें 'वैदूर्य' ।
 वैदेही—(हिं. स्त्री.) देखें 'वैदेही' ।
 वैन—(हिं. पुं.) वार्ता, बात; (मुहा.)
 -झरना—मुख से बात निकलना ।
 वैनतेय—(हिं. पुं.) देखें 'वैनतेय' ।
 वैन—(हिं. पुं.) वह मिठाई, पकवान आदि जो विवाह आदि उत्सवों के उपलक्ष्य में इष्ट-मित्रों के यहाँ भेजा जाता है, बायन ।
 वैपार—(हिं. पुं.) देखें 'व्यापार' ।
 वैपारी—(हिं. पुं.) व्यापार करनेवाला ।
 वैयन—(हिं. पुं.) बाना भरने का लकड़ी का उपकरण ।
 वैयर—(हिं. स्त्री.) स्त्री ।
 वैया—(हिं. पुं.) वैसर ।
 वैरंग—(अं. वि.) चिट्ठी आदि जिस पर प्रेषक ने टिकट न लगाया हो, विफल ।
 वैर—(हिं. पुं.) देखें 'वैर', शत्रुता, द्रोह, विरोध, वैर का वृक्ष या फल, हल में लगा हुआ चोंगा जिसमें भरा हुआ बीज हल चलने से बराबर कूड़े में गिरता जाता है; (मुहा.)—ठानना—शत्रुता करना, द्रोह आरम्भ करना;—निकालना—शत्रुता का बदला लेना;—पड़ना—शत्रु बनकर कष्ट देना;—मोल लेना—शत्रुता उत्पन्न करना;—लेना—बदला लेना ।
 वैरख—(हिं. पुं.) घ्वजा, पताका ।
 वैरा—(हिं. पुं.) बीज बोने के लिये हल में लगा हुआ चोंगा; (अं. पुं.) सेचक, चाकर ।
 वैराखी—(हिं. स्त्री.) भुजा पर पहनने का एक गहना, बरेखी ।
 वैराग—(हिं. पुं.) देख 'वैराग्य' ।
 वैरागी—(हिं. पुं.) वैष्णव मत के साधुओं का एक भेद ।
 वैराग्य—(हिं. पुं.) देखें 'वैराग्य' ।
 वैराना—(हिं. क्रि. अ.) वायु के प्रकोप से विकार होना ।
 वैरी—(हिं. वि.) देखें 'वैरी', विरोधी, शत्रु ।
 वैल—(हिं. पुं.) वृष, एक चौपाया जिसकी मादा गाय कहलाती है, मूख मनुष्य;—गाड़ी—(स्त्री.) वैल द्वारा खींची जानेवाली गाड़ी ।

बैलर—(अ. पुं.) 'वायलर' का अपभ्रंश, पीपे के आकार का लोहे का बड़ा पात्र जो भाफ से चलनेवाली कलों (इंजन आदि) में लगा रहता है ।
 बैल्व—(सं. वि.) बैल-संबन्धी, बैल का ।
 बैपानस—(सं. पुं.) देखें 'बैखानस' ।
 बैसंदर—(हिं. पुं.) देखें 'बैखानर', अग्नि ।
 बैस—(हिं. स्त्री.) आयु, युवावस्था; (पुं.) क्षत्रियों की एक प्रसिद्ध शाखा ।
 बैसना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'बैठना' ।
 बैसर—(हिं. स्त्री.) जुलाहों का एक यन्त्र जिससे वे कपड़ा बुनते समय बाने को बठाते हैं, कंधी ।
 बैसवारा—(हिं. पुं.) अवध के पश्चिमी प्रान्त का नाम ।
 बैसाख—(हिं. पुं.) देखें 'बैशाख', चैत के बाद के महीने का नाम ।
 बैसाखी—(हिं. वि.) बैशाख महीने का; (स्त्री.) वह लाठी जिसके सिरे पर अर्धचन्द्राकार आड़ी लकड़ी लगी होती है जिसको बगल में टेककर लंगड़े लोग चलते-फिरते हैं, बैशाख की पूर्णमा ।
 बैसाना, बैसारना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'बैठाना' ।
 बैसिक—(हिं. पुं.) रंडी से प्रेम करनेवाला मनुष्य ।
 बैहर—(हिं. वि.) भयानक, प्रचण्ड, क्रोधी; (स्त्री.) वायु, हवा ।
 बैक—(हिं. पुं.) लोहे का मुड़ा हुआ कीला जो किवाड़ के पल्ले की चूल में लगाया जाता है ।
 बैंगना—(हिं. पुं.) चौड़े मुख का एक प्रकार का पात्र ।
 बैभाई—(हिं. स्त्री.) बाने का काम, बाने का पारिश्रमिक ।
 बैभाना—(हिं. क्रि. स.) बाने का काम दूसरे से कराना ।
 बैक, बैकरा—(हिं. पुं.) बकरा ।
 बैखार—(हिं. पुं.) ज्वर ।
 बैगुमा—(हिं. पुं.) घोड़े का एक रोग जिसमें उसका पेट फूल जाता है ।
 बैज—(हिं. पुं.) घोड़े का एक भेद ।
 बैजा—(हिं. स्त्री.) चावल से बनी हुई मदिरा ।
 बैज्ञ—(हिं. पुं.) ऐसा गट्ठर, भार आदि जिसको उठाने में कठिनता हो, गठरी, गुरुत्व, भारीपन, कठिन कार्य, खटका या असमंजस, उतना माल जितना बैलगाड़ी आदि पर लादा जा सके, वह व्यक्ति जिसका निर्वाह करना भारी जान पड़े,

उतना भार जितना एक बैल की पीठ पर लादा जाय, कोई कार्य को पूरा करने की चिन्ता, कार्य-भार ।
 बैज्ञना—(हिं. क्रि. स.) नाव, गाड़ी आदि पर माल लादना ।
 बैज्ञल—(हिं. वि.) भारी ।
 बैज्ञा—(हिं. पुं.) देखें 'बैज्ञ' ।
 बैज्ञाई—(हिं. स्त्री.) बैज्ञने या लादने का काम, इस काम का शुल्क ।
 बैटा—(हिं. पुं.) लकड़ी का छोटा-छोटा कटा हुआ टुकड़ा, कुंदा ।
 बैटी—(हिं. स्त्री.) मांस का छोटा टुकड़ा; (मुहा.)—बैटी करना—टुकड़े-टुकड़े करना ।
 बैड़—(हिं. स्त्री.) सिर पर पहनने का एक प्रकार का फूल के आकार का गहना, बोर ।
 बैड़री—(हिं. स्त्री.) नाभि, तोंदी ।
 बैड़ल—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी पक्षी ।
 बैड़ा—(हिं. पुं.) अजगर, बड़ा सर्प, एक प्रकार की लंबी पतली फली जिसकी तरकारी खाई जाती है, लोविया ।
 बैड़ी—(हिं. स्त्री.) दमड़ी, अति अल्प घन, पौधे, वृक्ष आदि की फली, अगस्त की कली ।
 बैत—(हिं. पुं.) घोड़ों की एक जाति ।
 बैतक—(हिं. पुं.) पान की पहले वर्ष की खेती ।
 बैतल—(हिं. स्त्री.) काँच की लंबी गरदन का पात्र जो तेल आदि द्रव पदार्थ रखने के काम में आता है ।
 बैतलिया—(हिं. वि.) बीतल के रंग का, कालापन लिये हरा ।
 बैता—(हिं. पुं.) ऊँट का बच्चा जिस पर सवारी न होती हो ।
 बैदकी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का कुसुम जिसके फूल का रंग बनता है ।
 बैदर—(हिं. स्त्री.) लचीली छड़ी; ताल के किनारे पर सिचाई का पानी चढ़ाने का गड़्ढा ।
 बैदा—(हिं. वि.) जिसकी बुद्धि तीव्र न हो, मूख, मट्ठर, जो दबू हो;—पन—(पुं.) मूखता, दबूपन ।
 बैध—(सं. पुं.) ज्ञान, भ्रम का न होना, सन्तोष, धैर्य, धीरज;—क—(पुं.) ज्ञापक, बोध करानेवाला, शृंगार रस के हावों में से एक जिसमें किसी संकेत या क्रिया द्वारा अपने मन का भाव दूसरे को जताया जाता है; (वि.) ज्ञान करानेवाला;—कर—(पुं.) सेवक जो प्रातःकाल स्वामी को जगाता है;—गम्य—(वि.) समझ में आने योग्य;—ज्ञ—(पुं.) अभिप्राय जाननवाला, श्री-कृष्ण;—न—(पुं.) ज्ञापन, ज्ञाना, विज्ञापन,

अग्नि को सुलगाना, चैतन्य, उद्दीपन ।
बोधना—(हि. क्रि. स.) ज्ञान देना, समझाना ।
बोधनी—(सं. स्त्री.) बोध, पीपल का पेड़, कार्तिक शुक्ला एकादशी ।
बोधनीय—(सं. वि.) समझाने योग्य ।
बोधान—(सं. पुं.) बृहस्पति, विष्णु ।
बोधि—(हि. पुं.) बोध, ज्ञान, पीपल का वृक्ष ।
बोधित—(सं. वि.) ज्ञापित, जताया हुआ ।
बोधितरु—(सं. पुं.) पीपल का वृक्ष, गया में स्थित वह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था ।
बोधिद्रुम—(सं. पुं.) बोधितरु ।
बोधिसत्व—(सं. पुं.) वह जो बुद्धत्व प्राप्त करने का अधिकारी हो ।
बोध्य—(सं. वि.) बोध के योग्य, बोधनीय ।
बोना—(हि. क्रि. स.) अन्न के दानों या फल के बीजों को मिट्टी में डालना जिससे उनमें अंकुर फूटे और पौधा उत्पन्न हो, बिखराना, इधर-उधर फेंकना ।
बोवा—(हि. पुं.) स्तन, थन, गट्ठर, गठरी, घर की सामग्री ।
बोव्वी—(हि. स्त्री.) पुत्राग जाति का एक सदावहार वृक्ष ।
बोय—(हि. स्त्री.) गंध, दुर्गंध ।
बोर—(हि. पुं.) डुवाने की क्रिया, गोल गुंबज या कंगूरा, घुंघरू, एक गहना जो सिर पर पहना जाता है ।
बोरका—(हि. पुं.) दावात, मिट्टी की दावात जिसमें लड़के खड़िया-मिट्टी घोलकर रखते हैं ।
बोरना—(हि. क्रि. स.) किसी द्रव पदार्थ में निगमन करना, डुवाना, कलंकित करना, मिलावट करना, डुवाकर भिगोना, घूले हुए रंग में डुवाकर रंगना ।
बोरसी—(हि. स्त्री.) मिट्टी का वह पात्र जिसमें आग रखी जाती है, अँगोठी ।
बोरा—(हि. पुं.) अन्न आदि रखने का टाट का बना हुआ थैला ।
बोरिका—(हि. पुं.) देखें 'बोरका' ।
बोरिया—(हि. स्त्री.) छोटा थैला, विस्तर, चटाई; (मुहा.)—बैठना उठाना—यात्रा की तैयारी करना ।
बोरी—(हि. स्त्री.) टाट की छोटी थैली, छोटा बोरा ।
बोरो—(हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा घान ।
बोल—(हि. पुं.) वाणी, वचन, व्यंग्य, ताना, प्रतिज्ञा, संख्या, गीत का टुकड़ा, अन्तरा, किसी वाजे की ध्वनि; (मुहा.)—बाला होना—मान-मर्यादा बनी रहना;—चाल—(स्त्री.) वार्तालाप, बातचीत,

परस्पर सद्भाव, मेल-मिलाप, प्रतिदिन की आपसी बातचीत, असाहित्यिक भाषा ।
बोलता—(हि. पुं.) आत्मा, जीवन-तत्त्व, अर्थयुक्त शब्द बोलनेवाला प्राणी, मनुष्य, हुक्का, प्राण; (वि.) वाचाल, वक्तादी ।
बोलती—(हि. स्त्री.) वाक्, वाणी ।
बोलनहार—(हि. वि.) बोलनेवाला; (पुं.) आत्मा ।
बोलना—(हि. क्रि. स.) मुख से शब्द निकालना, वाजा, पेट आदि का शब्द उत्पन्न करना, कहना, कहलाना, पुकारना, मापण करना, रोक-टोक करना; (मुहा.)—चालना—वार्तालाप करना; बोल जाना—मृत्यु को प्राप्त होना, कुछ शेष न रहना ।
बोलवाना—(हि. क्रि. सं.) कहवाना, उच्चारण कराना, देखें 'बुलवाना' ।
बोलसर—(हि. पुं.) मौलसिरी का पेड़, घोड़े की एक जाति ।
बोलाचाली—(हि. स्त्री.) देखें 'बोल-चाल' ।
बोलाना—(हि. क्रि. सं.) देखें 'बुलाना' ।
बोलावा—(हि. पुं.) देखें 'बुलावा', निमंत्रण ।
बोली—(हि. स्त्री.) मुख से निकाला हुआ शब्द, वाणी, अर्थयुक्त शब्द या वाक्य, वचन, नीलाम करनेवाले और लेनेवाले का चिल्लाकर दाम कहना, किसी प्रदेश की भाषा, हँसी, दिल्लगी; (मुहा.)—बोलना—व्यंग्य के शब्द बोलना;—दार—(पुं.) वह असामी जिसको जोतने-वोने के लिये खेत बिना लिखा-पढ़ी के दिया गया हो ।
बोल्लाह—(हि. पुं.) घोड़े की एक जाति ।
बोवना—(हि. क्रि. स.) देखें 'बोना' ।
बोवाई—(हि. स्त्री.) वोने की क्रिया या भाव ।
बोवाना—(हि. क्रि. स.) वोने का काम दूसरे से कराना ।
बोह—(हि. स्त्री.) डुवकी, गोता ।
बोहनी—(हि. स्त्री.) किसी दिन की पहली विक्री ।
बोहारना—(हि. क्रि. स.) देखें 'बुहारना' ।
बोहारी—(हि. स्त्री.) झाड़ू ।
बोहित—(हि. पुं.) बड़ी नाव ।
बौड़—(हि. स्त्री.) किसी पीवे की डोरी के रूप में दूर तक जानेवाली टहनी, लता, बेल ।
बौड़ना—(हि. क्रि. अ.) लता की तरह बढ़ना, टहनी फेंकना ।
बौंडर—(हि. पुं.) चक्रवायु, बवंडर, वायु का जोका ।
बौड़ी—(हि. स्त्री.) लता या पौधों के

कच्चे फल, फली, छीमी, बोड़ी, बोंड ।
बौभाना—(हि. क्रि. अ., स.) स्वप्न की अवस्था में बोलना, वराना, अंडबंड वकना ।
बौखल—(हि. वि.) पागल, सनकी, झक्की ।
बौखलाना—(हि. क्रि. अ.) सनक जाना, कोष से पागल हो जाना ।
बौला—(हि. स्त्री.) हवा का तीव्र झोंका ।
बौछाड़—(हि. स्त्री.) देखें 'बौछार' ।
बौछार—(हि. स्त्री.) वायु के झोंके से तिरछी होकर गिरनेवाली वर्षा की बूंदें, झड़ी, किसी वस्तु का अधिक संख्या में कहीं आकर गिरना, लगातार बात पर बात जो किसी से कही जाय, कोई पदार्थ बहुत-सा देते या सामने रखते जाना, व्यंग्यपूर्ण बात, ताना ।
बौड़हा—(हि. वि.) पागल, सनकी, वावला ।
बौता—(हि. पुं.) समुद्र में तैरता हुआ संकेत ।
बौद्ध—(सं. पुं.) गौतम बुद्ध के मत का अनुयायी; (वि.) बुद्ध द्वारा प्रचारित ।
बौद्धधर्म—(हि. पुं.) गौतम बुद्ध का चलाया हुआ मत, भगवान् बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म ।
बौधायन—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।
बोना—(हि. पुं.) वामन, छोटे डील-डौल का मनुष्य, बहुत ठिगना आदमी ।
बोभुक्ष—(सं. वि.) क्षुधित, भूखा ।
बौर—(हि. पुं.) आम के वृक्ष की मंजरी, मोर ।
बौरई—(हि. स्त्री.) पागलपन, सनक ।
बौरना—(हि. क्रि. अ.) आम के वृक्ष का फलना, इसमें मंजरी निकलना ।
बौरहा—(हि. वि.) विक्षिप्त, पागल, सनकी ।
बौरा—(हि. वि.) विक्षिप्त, पागल, अज्ञान, गुंगा ।
बौराई—(हि. स्त्री.) सनक, पागलपन ।
बौराना—(हि. क्रि. अ.) विक्षिप्त होना, पागल हो जाना, सनक जाना, विवेक या बुद्धिरहित हो जाना ।
बौराहा—(हि. वि.) पागल, सनकी, वावला ।
बोरी—(हि. स्त्री.) बावली या पागल स्त्री ।
बोलड़ा—(हि. पुं.) सिर पर पहनने का एक प्रकार का गहना ।
बोलसिरी—(हि. स्त्री.) देखें 'मौलसिरी' ।
व्यंग—(हि. पुं.) व्यंग्य ।
व्यंजन—(हि. पुं.) व्यंजन ।
व्यतीतना—(हि. क्रि. अ.) व्यतीत होना; वीतना ।
व्यथा, व्यथित—(हि. पुं.) देखें 'व्यथा; 'व्यथित' ।

व्यवहरिया—(हिं. पुं.) रुपये का लेन-देन करनेवाला, महाजन।
 व्यवसाय—(हिं. पुं.) देखें 'व्यवसाय'।
 व्यवस्था—(हिं. स्त्री.) देखें 'व्यवस्था'।
 व्यवहार—(हिं. पुं.) व्यवहार, रुपये का लेन-देन, आपसी संबंध, मेल-मिलाप का संबंध, मुख-दुःख में परस्पर सम्मिलित होने की रीति।
 व्यवहारी—(हिं. वि.) लेन-देन करनेवाला, जिसके साथ लेन-देन हो, व्यापारी, कार्यकर्ता, जिसके साथ प्रेम-परस्पर हो।
 व्यसन—(हिं. पुं.) देखें 'व्यसन'।
 व्याज—(हिं. पुं.) वृद्धि, सूद, देखें 'व्याज'।
 व्याध, व्याधा—(हिं. पुं.) देखें 'व्याध', वहेलिया।
 व्याधि—(हिं. स्त्री.) देखें 'व्याधि', रोग।
 ध्याना—(हिं. क्रि. स.) पशुओं का बच्चा प्रसव करना, गर्भ से निकालना, उत्पन्न करना।
 व्यापना—(हिं. क्रि. अ.) चारों ओर व्याप्त होना या फैलना, प्रभाव डालना, ग्रसना, घेरना।
 ध्यापार—(हिं. पुं.) देखें 'व्यापार'।
 व्यारी—(हिं. स्त्री.) रात का भोजन, ब्यालू।
 ब्याल—(हिं. पुं.) देखें 'ब्याल'।
 ध्याली—(हिं. स्त्री.) सर्पिणी, नागिन; (वि.) सर्प धारण करनेवाला।
 ध्यालू—(हिं. पुं.) रात का भोजन।
 व्याह—(हिं. पुं.) देखें 'विवाह', पाणिग्रहण।
 व्याहता—(हिं. वि.) जिसके साथ विवाह हुआ हो; (पुं. स्त्री.) पति या पत्नी।
 व्याहना—(हिं. क्रि. स.) किसी का किसी के साथ विवाह-संबंध कर देना।
 व्याहुला—(हिं. वि.) विवाह संबंधी।
 व्यूगा—(हिं. पुं.) चमड़े को रगड़कर कोमल करने का चमार का लकड़ी का एक औजार।
 व्योचना—(हिं. क्रि. अ.) किसी अंग की नस का एकवारगी इधर-उधर मुड़कर उत्पन्न होना, मुरकना।
 व्योत—(हिं. पुं.) विवरण, युक्ति, उपाय, साधन या सामग्री आदि का मितव्यय, काम पूरा होने का हिसाब-किताब, पहनावा बनाने के लिये कपड़े की काट-छांट, प्रबंध, अवसर, संयोग, आयोजन, तैयारी, समाई, ढब।
 व्योतना—(हिं. क्रि. अ.) कोई पहनावा बनाने के लिये कपड़े को नापकर काटना-छांटना, मितव्यय से चलना।
 व्योताना—(हिं. क्रि. स.) शरीर की नाप

के अनुसार कपड़ा कटवाना।
 व्योपार, व्योपारी—(हिं. पुं.) देखें 'व्यापार', 'व्यापारी'।
 व्योरन—(हिं. स्त्री.) बालों को सुलझाने या सँवारने की क्रिया या ढंग।
 व्योरना—(हिं. क्रि. स.) उलझे हुए सूत, तार आदि को अलगाना, उलझे हुए बालों को सँवारना।
 व्योरा—(हिं. पुं.) विवरण, वृत्तान्त, समाचार, किसी विषय के संबंध की सारी बात, अन्तर, भेद।
 व्योरेवार—(हिं. अव्य.) विस्तार-सहित।
 व्योसाय—(हिं. पुं.) देखें 'व्यवसाय'।
 व्योहर—(हिं. पुं.) रुपये का लेन-देन, व्यवहार।
 व्योहरा—(हिं. पुं.) सूद पर रुपया देनेवाला, हुंडी चलानेवाला।
 व्योहरिया—(हिं. पुं.) महाजनी करनेवाला, सूद पर रुपया ऋण देनेवाला।
 व्योहर—(हिं. पुं.) देखें 'व्योहर'।
 व्योहरिया—(हिं. पुं.) देखें 'व्योहरिया'।
 व्योहार—(हिं. पुं.) देखें 'व्योहर'।
 ब्रज—(हिं. पुं.) देखें 'ब्रज'।
 ब्रजना—(हिं. क्रि. अ.) चलना, जाना।
 ब्रध्न—(सं. पुं.) सूर्य, शिव, दिखें, घोड़ा।
 ब्रह्मंड—(हिं. पुं.) देखें 'ब्रह्मांड'।
 ब्रह्म—(सं. पुं.) वेद, तपस्या, तप, सत्य, तत्त्व, ज्ञानमय परमात्मा, आनन्द-स्वरूप आत्मा, ज्योतिष के सत्ताईस योगों में से पचीसवाँ योग, चैतन्य, एक की संख्या, ब्रह्मराक्षस, वह ब्राह्मण जो मरकर प्रेत-योनि की प्राप्ति हुआ हो, ब्रह्मा, ब्राह्मण; -कन्यका—(स्त्री.) ब्राह्मी बटी; -कर—(पुं.) वह धन जो ब्राह्मण, गुरु या पुरोहित को दिया जाय; -कर्म—(पुं.) वेद-विहित कार्य; -कल्प—(पुं.) उतना समय जितने म एक ब्रह्मा सृष्टि चलाते हैं; -काष्ठ—(वि.) शहतूत; -कृत—(पुं.) विष्णु, शिव, इन्द्र; -कोशी—(पुं.) अजमोदा; -गति—(स्त्री.) निर्वाण, मोक्ष; -गर्भ—(पुं.) अजमोदा, अड़हुल का फूल; -गाँठ—(हिं. स्त्री.) जनेऊ की गाँठ; -गीतिका—(स्त्री.) ब्रह्मा की स्तुति; -ग्रंथि—(स्त्री.) यज्ञोपवीत की मुख्य गाँठ; -ग्रह—(पुं.) ब्रह्मराक्षस; -घातक—(पुं.) ब्रह्महत्या करनेवाला; -घाती—(पुं., वि.) ब्राह्मण की हत्या करनेवाला; -घातिनी—(स्त्री.) ब्राह्मण की हत्या करनेवाली स्त्री; -घोष—

(पुं.) वेदध्वनि, वेदपाठ; -घ्न—(पुं.) ब्राह्मण को मारनेवाला; -चर्य—(पुं.) एक आश्रम का नाम, आठ प्रकार के मैथुनों से वचन का साधन, यम का एक भेद, वीर्य को सुरक्षित करने का संयम, पुरुष का स्त्री-संभोग तथा अन्य वासनाओं से अलग रहकर केवल अध्ययन करने में निरन्तर लगे रहना; -चारिणी—(स्त्री.) ब्रह्मचर्य पालन करनेवाली स्त्री, दुर्गा की एक मूर्ति, पावती, सरस्वती; -चारी—(पुं.) उपनयन के बाद नियमपूर्वक वेदादि के अध्ययन के लिये गुरु के घर में रहनेवाला, शिष्य; एक गंधर्व का नाम; -ज—(पुं.) हिरण्य-गर्भ; -जटा—(स्त्री.) दमनक, दौने का पौधा; -जन्म—(पुं.) उपनयन संस्कार; -जीवी—(पुं.) श्रौत आदि कर्म करके जीविका चलानेवाला; -ज्ञ—(पुं.) विष्णु, कार्तिकेय; (वि.) ब्रह्म को जाननेवाला; -ज्ञान—(पुं.) ब्रह्मविषयक ज्ञान, चैतन्य आत्मा का यथार्थ अनुभव, अद्वैत सिद्धान्त का पूर्ण बोध; -ज्ञानी—(वि.) परमार्थतत्त्व का ज्ञान रखनेवाला; -ज्य—(वि.) ब्राह्मण पर अत्याचार करनेवाला; -ण्य—(पुं.) विष्णु, शनैश्चर, कार्तिकेय; (वि.) ब्रह्म-संबंधी; -ता—(स्त्री.) ब्राह्मण का धर्म या भाव; -ताल—(पुं.) चतुर्मुख ताल का नाम; -त्व—(पुं.) ब्राह्मणत्व, ब्रह्मा का भाव या धर्म; -दंड—(पुं.) ब्राह्मण का शाप-रूप दण्ड, ब्रह्म-शाप; -दर्भा—(स्त्री.) यमानिका, अजवायन; -दान—(पुं.) वेद का अध्यापन; -दार—(पुं.) शहतूत का पेड़; -दिन—(पुं.) ब्रह्मा का एक दिन; -द्वैत्य—(पुं.) वह ब्राह्मण जिसने मरने पर प्रतयीनि पाई हो, ब्रह्म-राक्षस; -द्वेष—(पुं.) ब्रह्महत्या, ब्राह्मण की हत्या करने का पाप; -द्वेषी—(वि.) जिसकी ब्रह्म-हत्या लगी हो; -द्रोही—(वि.) ब्राह्मणों से द्रोह करनेवाला; -द्वार—(पुं.) खोपड़ी के बीच का छिद्र, ब्रह्मरंध्र; -धातु—(पुं.) ब्रह्मत्व की शक्ति, रुद्र; -नाभि—(पुं.) विष्णु; -निष्ठ—(वि.) ब्रह्मज्ञान-संपन्न, ब्राह्मणों का भक्त; -पति—(पुं.) बृहस्पति; -पत्र—(पुं.) पलाश का पत्ता; -पद—(पुं.) ब्रह्मत्व, मोक्ष, मुक्ति, ब्राह्मणत्व; -पर्णी—(स्त्री.) पिठवन नाम की लता; -पादप—(पुं.)

पलायन का वृक्ष; -पाय-(पुं.) ब्रह्मा का पाय नामक अस्त्र; -पियाच-(पुं.) ब्रह्मराधस; -पुत्र-(पुं.) एक बड़ी नदी जो मानसरोवर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है; ब्रह्मा का पुत्र, वसिष्ठ, नारद, मरीचि; -पुत्री-(स्त्री.) सरस्वती नदी; -पुर-(पुं.) हृदय, ब्रह्मलोक; -पुराण-(पुं.) वेदव्यास प्रणीत एक पुराण जिसको आदि पुराण भी कहते हैं; -पुरी-(स्त्री.) काशी ग्राम; -पुरोहित-(पुं.) देवताओं के पुरोहित, बृहस्पति; -रास-(हि. स्त्री.) देवों 'ब्रह्मरास'; -रत्न-(पुं.) वह तेज या शक्ति जो मक्त को तप करने से प्राप्त हो; -रौज-(पुं.) प्रणव, ओंकार; -भवन-(पुं.) ब्रह्मलोक; -भाव-(पुं.) ब्रह्म का स्वरूप; -भूय-(पुं.) ब्रह्मत्व, मोक्ष; -भोज-(पुं.) ब्राह्मणों का भोजन कराना; -मय-(वि.) ब्रह्मस्वरूप; -मुहूर्त-(पुं.) मूर्धादेय के तीन-चार घड़ी पहले का समय, प्रभात; -मैतल-(पुं.) मंजुवृष, मंजु; -यज्ञ-(पुं.) शिष्यों का विधिपूर्वक वेदाभ्यास, वेदाध्ययन; -योग-(पुं.) समाधि का एक भेद, अठारह मात्राओं का एक ताल; -योनि-(वि.) जिसकी उत्पत्ति का कारण ब्रह्म हो; -रंभ्र-(पुं.) ताम्बू, मस्तक के मध्य का वह गुप्त छिद्र जिससे निकलने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है; -रथ-(पुं.) ब्रह्मा का वाहन, हंस; -राक्षस-(पुं.) वह ब्राह्मण जो मरकर प्रेत-योनि को प्राप्त हुआ हो; -रात-(पुं.) याज्ञवल्क्य मुनि के पिता का नाम; -रात्र-(पुं.) देवों 'ब्रह्ममुहूर्त', ब्रह्मा की एक रात जो कल्प के बराबर होती है; -राशि-(पुं.) पवित्र ग्रन्थ-समूह; -रीति-(स्त्री.) ब्रह्मा या ब्राह्मण की रीति; -रूपक-(पुं.) एक प्रकार का छन्द जिसमें मोड़-अक्षर होने हैं, (इसको चित्रा या चंचला भी कहते हैं); -रेणु-(स्त्री.) भाग्य या निरति का रेणु, ब्रह्मरेणु; -रेणु-(पुं.) भाग्य या निरति का रेणु जिसके शिष्य में ब्रह्म जाना है कि योनि-भूय के गर्भ में आवे हैं उनके मन्त्रक पर ब्रह्मा जिन में है; -रोर-(पुं.) वह जोर जो मनुष्य को है, मन्त्रकोट; -रुद्र-(पुं.) मन्त्रकोट-भूय का वंशज;

-रथ-(पुं.) ब्राह्मण की हत्या; -रत्नम्-(पुं.) वह शक्ति जिसको ब्रह्मचर्य तथा तप से प्राप्त किया जाता है; -राद-(पुं.) वेदपाठ, वेद का पढ़ना-पढ़ाना; -रादी-(पुं.) वेदान्ती, वेदों की पढ़ानवाला; -रादिनी-(स्त्री.) गायत्री; -रास-(पुं.) ब्रह्मलोक; -रिद-(पुं.) विष्णु, शिव; (वि.) ब्रह्म को जाननेवाला, वेद का अर्थ समझनेवाला; -विद्या-(स्त्री.) ब्रह्मज्ञान, दुर्गा, उपनिषद् का एक भेद, वह विद्या जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान हो सके; -विवर्धन-(पुं.) विष्णु, तपोबल का विशेष रूप से बढ़ना; -वृक्ष-(पुं.) पलायन का वृक्ष, गूलर का पेड़; -वृत्ति-(स्त्री.) ब्राह्मण की जीविका; -वृद्ध-(वि.) जिसकी शक्ति तप करने से बढ़ गई हो; -वेद-(पुं.) वेदान्त; -वेवर्त-(पुं.) वह प्रतीति या भाव जो ब्रह्म के कारण हो, ब्रह्म के तेज से प्रतीत होनेवाला जगत्, अठारह पुराणों में से एक, श्रीकृष्ण; -व्रत-(पुं.) वह व्रत जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिये किया जाता है; -शाला-(पुं.) वेदाध्ययन का स्थान; -शासन-(पुं.) वेद या स्मृति की आज्ञा; -समाज-(पुं.) राजा राममोहन राय द्वारा प्रचार किया हुआ एक संप्रदाय; -सर्प-(पुं.) विषधर सर्प; -मुता-(स्त्री.) सरस्वती; -सू-(पुं.) प्रयत्न, अनिरुद्ध; -सूत्र-(पुं.) यज्ञोपवीत, जनेऊ, व्यास मुनि का बनाया हुआ वेदांत सूत्र जिसमें ब्रह्म का प्रतिपादन है; -स्तंब-(पुं.) ब्रह्मण्ड; -स्वरूप-(पुं.) जगत् या प्रकृति का प्रतिरूप; -हत्या-(स्त्री.) ब्राह्मण का वध, ब्राह्मण को मार डालना; -हृत्-(पुं.) ब्रह्महत्या करनेवाला; -हृत-(पुं.) क्षतिग्रस्त-यूजन-रूप यज्ञ। ब्रह्मांड-(मं.पुं.) नौदशोत्तराशी का समूह, विश्वकोश, मन्त्रों का विषय, योग्यी। ब्रह्मति-(मं.पुं.) ब्राह्मण शक्ति, शक्ति आदि; -देव-(पुं.) कृष्णदेव आदि नारदेव। ब्रह्मा-(मं.पुं.) ब्रह्म के मनुष्य रूपों में से वह जो सृष्टि की रचना करता है, शिवता, सज्ञ के मनुष्य शक्ति का नाम। ब्रह्माक्षर-(मं.पुं.) ब्राह्म, ओंकार। ब्रह्माणी-(मं. स्त्री.) ब्रह्म की स्त्री, शक्ति, मूर्तियों, भाषणी, दुर्गा। ब्रह्माविजाता-(मं. स्त्री.) दासतायी।

ब्रह्मानंद-(मं.पुं.) ब्रह्मस्वरूप आनन्द, ब्रह्म-ज्ञान होने पर जो आनन्द प्राप्त होता है। ब्रह्मान्यास-(मं. पुं.) वेदान्तमन। ब्रह्मापतन-(मं. पुं.) ब्रह्मलोत। ब्रह्मभक्त-(मं.पुं.) सरस्वती और वृषती नदियों के बीच का प्रदेश। ब्रह्मासन-(मं. पुं.) ध्यानमन, योगमन। ब्रह्मास्त्र-(मं.पुं.) वह मंत्रात्मक अस्त्र जो मनुष्यों में चलाया जाता था। ब्रह्मस्थ-(मं. पुं.) ब्राह्मण का गुण। ब्रह्मिष्ठा-(मं. स्त्री.) दुर्गा। घात-(हि. पुं.) देवों 'घात'। घ्राह-(मं. वि.) ब्रह्म या ब्राह्मण संबंधी। ब्राह्मण-(मं.पुं.) अथर्वना, नृदेव, विद्व, ब्राह्मण जाति, मित्र, विष्णु, मंत्र से मित्र वेद का अंग, अग्नि, एत वंश का नाम; -ता-(स्त्री.), -त्र-(पुं.) ब्राह्मण का नाव या धर्म; -प्रिय-(पुं.) विष्णु; -भोजन-(पुं.) ब्राह्मणों को गिलाना; -वध-(पुं.) ब्राह्मण की हत्या। ब्राह्मणी-(मं. स्त्री.) ब्राह्मण की स्त्री। ब्राह्मण्य-(मं.पुं.) ब्राह्मण का धर्म, विप्रत्य। ब्राह्ममुहूर्त-(मं. पुं.) अरुणोदय ताल के पूर्व के दो दण्ड। ब्राह्म-समाज-(मं. पुं.) एक धर्म मन्दाप जिसमें एक मात्र परब्रह्म की उपासना की जाती है, ब्रह्म-समाज। ब्राह्मी-(मं.स्त्री.) दुर्गा, सरस्वती, गैरिकी नदी, एक बड़ी का नाम, भाष्यार्थ की एक प्राचीन लिपि जिसमें नागरी, बंज आदि आधुनिक लिपियां निर्गम्य हैं। ब्राह्मीक्षर-(मं. पुं.) बागरीक्षर। ब्राह्म्य-(मं. वि.) ब्रह्ममन्त्री।

म

म- हिन्दी वर्णमाला का चौबीसवां तथा वर्ण का चौथा वर्ण, (इसका उच्चारण मन्मान शब्द में) इसके उच्चारण में शिष्ट के साथ बिना के उच्चारण का नाम होता है। इसका यह कार्यकर्त्ता कर्मात्मक है। म-(मं. पुं.) मन्त्र, धर्म, शक्ति, शक्ति, धर्म, भक्ति, ब्रह्मचर्य के समूह पर एक विशेष अर्थ है। वर्णों में मन्त्र के ही वर्ण समूह होते हैं। मन्त्र-(हि. पुं.) मन्त्र के अर्थ का शब्द। मन्त्रकोटी-(मं. स्त्री.) ब्रह्मण, धर्म, ब्रह्मण का लक्षण मन्त्र।

भंग—(सं. पुं.) तरंग, लहर, खंड, बाघा, विनाश, टुकड़ा, भाग, टूटना; (स्त्री.) भांग।
भंगड़—(हि.वि.) बहुत भांग पीनेवाला; (पुं.) वह जो प्रतिदिन बहुत भांग पीता हो, भंगड़ी।
भंगना—(हि.क्रि.अ.स.) तोड़ना, दवाना, टूटना, दबना।
भंगरा—(हि.पुं.) एक प्रकार का मोटा कपड़ा जो भांग के रेशे से बना जाता है, वर्षाकाल में होनेवाली एक प्रकार की वनस्पति, भंगरैया।
भंगराज—(हि.पुं.) कोयल की तरह की एक चिड़िया, देखें 'भंगरा'।
भंगरया—(हि.स्त्री.) देखें 'भंगरा', भंगराज।
भंगार—(हि.पुं.) वह गड़्ढा जो कूप खनते समय पहले खोदा जाता है, वह गड़्ढा जो बरसात के दिनों में भूमि के दब जाने से बन जाता है, कूड़ा-करकट, घासफूस।
भंगिमा—(सं. स्त्री.) वक्रता, मुद्राकृति।
भंगिरा—(हि.पुं.) देखें 'भंगरा'।
भंगी—(सं. वि.) नष्ट होनेवाला, भंग करनेवाला; (स्त्री.) टेढ़ापन, कुटिलता, वेश-विन्यास; (हि.पुं.) एक अस्पृश्य जाति जिसका काम मल-मूत्र आदि उठाना है; (वि.) भांग पीनेवाला, भंगड़ी।
भंगुर—(हि.वि.) नाशवान्, टेढ़ा; -ता- (स्त्री.) कुटिलता, विनाशशीलता।
भंगड़ी—(हि.पुं.) अधिक भांग पीनेवाला।
भंगरा—(हि.पुं.) भांग की छाल का बना हुआ कपड़ा, भंगरैया।
भंगेला—(हि.पुं.) देखें 'भंगेरा'।
भंजक—(सं. वि.) तोड़नेवाला।
भंजन—(सं. पुं.) तोड़ने का काम; (वि.) तोड़नेवाला, नाश करनेवाला।
भंजना—(हि.क्रि.स.) विभक्त होना, टुकड़े-टुकड़े होना, किसी बड़ी मुद्रा का छोटी मुद्रा में बदला जाना, भुनना, बटा जाना, मोड़ा जाना, मांजा जाना।
भंजनी—(हि.स्त्री.) करघे का एक अंग जो ताने के किनारे पर लगा रहता है।
भंजाना—(हि.क्रि.स.) तोड़वाना, बड़ी मुद्रा के बदले छोटी मुद्राएँ लेना या देना, भुनाना, रस्सी, कागज आदि को मांजने में दूसरे को नियुक्त करना।
भंक्षा—(हि.पुं.) कुएँ के किनारे के खंभों पर आड़े बल रसी हुई लकड़ी।
भंक्तैषा—(हि.स्त्री.) देखें 'भंक्तैषा'।

भंटा—(हि.पुं.) बैंगन।
भंड—(हि.पुं.) देखें 'भांड'; (वि.) गाली बकनेवाला, घूर्त।
भंडताल—(हि.पुं.) एक प्रकार का नाच और गाना जिसमें एक मनुष्य गाता है और शेष लोग उसके पीछे तालियाँ पीटते हैं।
भंडतिल्ला—(हि.पुं.) देखें 'भंडताल'।
भंडना—(हि.क्रि.स.) भंग करना, तोड़ना, नष्ट-भ्रष्ट करना, अपकीर्ति फैलाना, हानि पहुँचाना, बिगाड़ना।
भंडफोड़—(हि.पुं.) मिट्टी के पात्रों को पटककर तोड़ना-फोड़ना, मिट्टी के पात्रों का टूटना-फूटना, भेद खोलने का काम, भंडाफोड़।
भंडभांड—(हि.पुं.) एक कटीला पौधा जिसकी पत्तियाँ और जड़ औषध के काम में आती हैं।
भंडरिया—(हि.पुं.) एक जाति का नाम, (इस जाति के लोग शनैश्चर आदि ग्रहों का दान लेते तथा लोगों का हाथ देखकर भविष्य-फल बतलाते हैं); (वि.) पाखंडी, ढोंगी, घूर्त; (स्त्री.) भीत में बनी हुई छोटी भालमारी जिसमें पल्ले लगे हों।
भंडसार, **भंडसाल**—(हि.स्त्री.) वह गोदाम जहाँ सस्ता अन्न मोल लेकर महुँगा बेचने के लिये इकट्ठा किया जाता है।
भंडा—(हि.पुं.) पात्र, भांड, भंडार, रहस्य, भेद; (सुहा.) -फूटना-भेद खुल जाना।
भंडाना—(हि.क्रि.स.) नष्ट करना, तोड़ना-फोड़ना, उपद्रव करना, उछल-कूद करना।
भंडार—(हि.पुं.) कोष, अन्न रखने का स्थान, कोठार, पाकशाला, भंडारा, उदर, पेट, अग्निकोण।
भंडारा—(हि.पुं.) देखें 'भंडार', झुंडुफ समूह, उदर, पेट, साधुओं का भोज।
भंडारी—(हि.स्त्री.) कोष, खजाना, छोटी कोठरी; (पुं.) कोषाध्यक्ष, रसोईदार।
भंडेरिया—(हि.पुं.) देखें 'भंडरिया'।
भंडेरियापन—(हि.पुं.) पाखंड, ढोंग।
भंडौआ—(हि.पुं.) भांडों के गान का गीत, ऐसा गीत जो सम्य समाज में गाने योग्य न हो, हास्यरस की निकृष्ट कविता।
भंवरी—(हि.स्त्री.) बबूल की जाति का एक वृक्ष।
भंभरना—(हि.क्रि.अ.) भयभीत होना, डरना।
भंभा—(सं. पुं.) विल, छेद।
भंभाका—(हि.स्त्री.) कोई बड़ा छिद्र।
भंभाना—(हि.क्रि.अ.) गो आदि पशुओं

का चिल्लाना, रँमाना।
भंभीरी—(हि.स्त्री.) एक प्रकार का बरसाती फर्तिगा, जुलाहा।
भंभेरि—(हि.स्त्री.) भय, डर।
भंभर—(हि.पुं.) बड़ी मधुमक्खी, बरें, मिड़।
भंभन—(हि.स्त्री.) देखें 'भ्रमण', घूमना-फिरना।
भंभना—(हि.क्रि.अ.) घूमना-फिरना, चक्कर लगाना।
भंभर—(हि.पुं.) देखें 'भ्रमर', मीरा, गड़्ढा, जल के बहाव में वह स्थान जहाँ पानी की धारा एक केन्द्र पर चक्कर खाती हुई घूमती है; -कली—(स्त्री.) लोहे या पीतल की वह कड़ी जो कील में इस प्रकार जड़ी रहती है कि चारों ओर घूम सके; -गीत—(पुं.) देखें 'भ्रमर-गीत'; -जाल—(पुं.) संसार के प्रपंच, भ्रमजाल; -भीख—(स्त्री.) वह भीख जो घर-घर घूमकर मांगी जाय।
भंभरा—(हि.पुं.) देखें 'भौरा', भ्रमर।
भंभरी—(हि.स्त्री.) भंभर, जल-धारा का चक्कर, जन्तुओं के शरीर पर का वह स्थान जहाँ रोयें या बाल एक केन्द्र पर एँठे हुए रहते हैं, घूम-घूम कर सौदा बेचना, चक्कर लगाना, परिक्रमा।
भंभाना—(हि.क्रि.स.) भ्रम में डालना, चक्कर देना, घुमाना।
भंभारा—(हि.वि.) भ्रमणशील, घूमनेवाला।
भंभया—(हि.पुं.) भ्राता, भाई, एक आंदर-सूचक शब्द जो बराबरवालों के लिय प्रयुक्त होता है।
भक—(हि.अव्य.) आग के एकाएक जलने या घुआँ के निकलने से उत्पन्न शब्द; (इसका प्रयोग 'से' विभक्ति के साथ होता है।)
भकभकाना—(हि.क्रि.अ.) भकभक करके जलना।
भकक्षा—(सं. स्त्री.) नक्षत्रों की कक्षा।
भकरांध—(हि.स्त्री.) अन्न के सड़ने की गन्ध।
भकरांधा—(हि.वि.) सड़ा हुआ।
भकसा—(हि.वि.) (खाद्य-पदार्थ) जो अधिक समय तक पड़े रहने के कारण दुर्गन्धयुक्त हो गया हो।
भकसाना—(हि.क्रि.अ.) किसी खाद्य पदार्थ का दुर्गन्धयुक्त और खट्टा हो जाना।
भकाअँ—(हि.पुं.) बच्चों को डराने का शब्द, हीआ।
भकार—(सं. पुं.) 'म' स्वरूप वर्ण।
भकुआ—(हि.वि.) मूढ़, मूर्ख।

भकुआना—(हि.क्रि.अ.म.) व्यग्र होना, धवरा जाना, चकपकाना, मूर्ख बनना, भकुआ जाना ।

भकुड़ा—(हि.पुं.) तोप में बत्ती आदि ठंसने का मोटा गज ।

भकुड़ाना—(हि.क्रि.म.) तोप का मुंह छोड़े के गज से स्वच्छ करना ।

भकुवा—(हि.वि.) देखें 'भकुआ' ।

भकट—(सं.स्त्री.) ज्योतिष में एक प्रकार की राशियों का समूह ।

भकोसना—(हि.क्रि.स.) बिना अच्छी तरह से कुचले जल्दी-जल्दी निगलना, या खाना ।

भक्किका—(सं.स्त्री.) झिल्ली, झींगुर ।

भक्त—(सं.पुं.) भात, घन; (वि.) तत्पर, भक्तियुक्त, सेवा करनेवाला, वांछकर दिया हुआ, अलग किया हुआ;

—कंस—(पुं.) कांस का पात्र जिसमें भात खाया जाता है; —कार—(पुं.) रसोईदार; —जा—(स्त्री.) अमृत;

—ता—(स्त्री.), —त्व—(पुं.) भक्ति; —दास—(पुं.) वह दास जो केवल भोजन लेकर ही काम करता हो;

—पन—(हि.पुं.) भक्ति; —रत्न—(स्त्री.) भोजन करने की प्रवृत्ति इच्छा;

—वताल—(वि.) भक्तों पर स्नेह करनेवाला; (पुं.) विष्णु; —शाला—(स्त्री.) रसोई-घर ।

भक्ताई—(हि.स्त्री.) देवों 'भक्ति' ।

भक्ति—(सं.स्त्री.) विभाग, सेवा, श्रुंषा, वांछने की विद्या, सण्ड, अवयव, रसा से किन्ना हुआ विभाग, श्रद्धा, विश्वास रगना, पूजा, अर्चन, स्नेह, अनुराग, उपचार, एक वृत्त का नाम, भगवन्-पूजा में अनुराग; —कर—(वि.) भक्तियोग्य; —योग—(पुं.) भक्ति का साधन, सर्वदा भगवान् में श्रद्धापूर्वक मन लगाकर उनकी उपासना करना;

—रस—(पुं.) वह रस जिसका स्वादी नाम भक्ति है; —राग—(पुं.) भक्ति का पूर्वानुराग; —दाद—(पुं.) भक्ति-निपत्क कथा; —सूत्र—(पुं.) वैष्णव सम्प्रदाय का एक मुख्यग्रन्थ जिसमें भक्ति का वर्णन है ।

भक्त—(सं.पुं.) अलग, माने का काम, माने का पदार्थ; —क—(वि.) पावन, माने वाला; —कार—(पुं.) उपासना;

—ण—(पुं.) किसी वस्तु की स्त्री में के कारण भक्तता, भोजन करता ।

भक्तनीर—(सं.वि.) भक्तियोग्य, माने-वाला ।

भक्षना—(हि.क्रि.) भोजन करना, खाना ।

भक्षयिता—(सं.पुं.) खानेवाला ।

भक्षित—(सं.वि.) खाया हुआ ।

भक्षी—(सं.वि.) भक्षक, खानेवाला ।

भक्ष्य—(सं.वि.) खाने योग्य; (पुं.) अन्न, आहार ।

भक्ष्याभक्ष्य—(सं.पुं.) खाने तथा न खाने योग्य पदार्थ ।

भख—(हि.पुं.) आहार, भोजन ।

भखना—(हि.क्रि.स.) भोजन करना, खाना, निगलना ।

भखी—(हि.स्त्री.) दलदल में हानेवाली एक प्रकार की घास ।

भगदर—(सं.पुं.) गुदा में ब्रण होने का रोग ।

भग—(सं.पुं.) स्त्री की योनि, गदा, रवि, मूर्ख, बारह आदित्यों में से एक, छः प्रकार की विभूतियाँ, इच्छा, माहात्म्य, यत्न, धर्म, मोक्ष, सौभाग्य, कान्ति, चन्द्रमा, घन, पद, एक देव का नाम, ऐश्वर्य ।

भगण—(सं.पुं.) वह समय जो किसी ग्रह के भेषादि वास्तुओं राशियों के अतिक्रमण में लगता है, छन्दःशास्त्र के अनुसार वह गण जिसके आदि का एक वर्ण गुरु और अन्त के दो वर्ण लघु होते हैं ।

भगत—(हि.पुं.) देवों 'भक्त', सेवक, उपासक, साध, वह जो मांस न खाता हो, विचारवान्, ओझा, होश में स्वांग बनानेवाला, भूत-प्रेत उतारनेवाला ।

भगतिया—(हि.पुं.) राजपूताने की एक वैष्णव जाति ।

भगदड़, भगदर—(हि.स्त्री.) किसी उपद्रव से दस्त होकर बहुत-से लोगों का एता-एक मागना ।

भगतबटल—(हि.वि.) देवों 'भक्तवत्सल' ।

भगति—(हि.स्त्री.) देवों 'भक्ति' ।

भगती—(हि.स्त्री.) देवों 'भक्ति' ।

भगना—(हि.पुं.) बहिन का पुत्र, भोज्य; (वि.अ.) भागना ।

भगनी—(हि.स्त्री.) देवों 'भगिनी' ।

भगर—(हि.पुं.) छल, गपट ।

भगरना—(हि.क्रि.अ.) गले में अन्न का गड़ने लगना ।

भगल—(हि.पुं.) बड़, छल, गपट, रसा-गोपाल, इन्द्रजाल ।

भगती—(हि.पुं.) स्त्री, स्त्री, सार्थक ।

भगवत्—(हि.पुं.) देवों 'भगवत्' ।

भगवती—(सं.स्त्री.) स्त्री, स्त्री, स्त्री, स्त्री, स्त्री ।

भगवत्—(सं.पुं.) परमेश्वर, बुद्ध, जिव, विष्णु, मूर्ख, कार्तिकेय, वेदव्यास, गुरु; (वि.) पूजनीय ।

भगवत्सुखी—(सं.स्त्री.) गंगा का एक नाम ।

भगवद्गीता—(सं.स्त्री.) महाभारत के नीचम पर्व के अन्तर्गत अठारह अध्यायों का वह ग्रंथ जिसमें कर्मयोग, आत्मयोग और भक्तियोग का उद्देश है जिसको श्रीकृष्ण ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिये काव्य के रूप में सुसंस्थल में सुनाया था ।

भगवद्भक्त—(सं.पुं.) ईश्वर का भक्त ।

भगवा—(हि.पुं.) गंगा, गंगा, गंगा ।

भगवान्, भगवान—(सं.हि.पुं.) परमेश्वर, विष्णु, कोई आदरणीय व्यक्ति; (वि.) पूज्य, ऐश्वर्यगुता ।

भगहारी—(सं.पुं.) जिव, महादेव ।

भगाकुर—(सं.पुं.) अर्धरोग, बवाली ।

भगाना—(हि.क्रि.स.) किसी को भागने में प्रवृत्त करना, दोड़ाना, हटाना, खदेड़ना, दूर करना ।

भगास्त्र—(सं.पुं.) प्राचीन काल का एक अस्त्र ।

भगिनी—(सं.स्त्री.) स्त्री, स्त्री, स्त्री ।

भगीरथ—(सं.पुं.) यह सुयवंशीय राजा अंगमान् के पुत्र त्रिलोक के लड़के से और घोर तपस्या करने गंगा को पृथ्वी पर लाये थे; (वि.) भगीरथ की तपस्या के नामान कठिन, बहुत बड़ा ।

भगेड़—(हि.वि., पुं.) (घर) जो बगी से छिपकर भागा हो, जो काम करने पर भाग जाता हो, कायर ।

भगोड़ा—(हि.वि.,पुं.) भागनेवाला, कायर ।

भगोल—(सं.पुं.) तथागत, भगोद ।

भगोती—(हि.स्त्री.) देवों 'भगती' ।

भगोही—(हि.वि.) जो भागने को बंदार हो, कायर, मन से रेंगा रहा, भगधा ।

भगुल, भगु—(हि.वि.) जो विदित देवकर भोगता हो, मूलभेद में भाग हुआ, भाग्य ।

भाग—(सं.वि.) पगलित, भाग हुआ, दूरा हुआ; —हूत—(पुं.) मूलभेद में भाग्य भाग्य ही भाग्य को भाग का समान्य सुनायी है; —गुट—(वि.) जिसकी पीठ दूर हुई है ।

भागाना—(सं.पुं.) गुण दूर हो या दूर हो का विभाग का भाग ।

भागवयोग—(सं.पुं.) किसी वस्तु का भाग्य के लिये किसी वस्तु के भाग्य के भाग्य ।

भागवती—(सं.वि.) किसी वस्तु का भाग्य का भाग्य ।

भाव, लँगड़ापन ।

भचकना—(हि.क्रि.अ.) आश्चर्य में निमग्न होकर रह जाना, चलते समय पैरों का टेढ़ा-मेढ़ा पड़ना ।

भचक्र—(सं.पुं.) नक्षत्रसमूह, राशिचक्र ।

भच्छ—(हि.पुं.) देखें 'मध्य' ।

भच्छना—(हि.क्रि.स.) भक्षण करना, खाना ।

भजक—(सं.वि.) विभाजक, भाग करनेवाला ।

भजन—(सं.पुं.) भाग, खण्ड, सेवा, पूजा,

वार-वार किसी देवता या पूज्य का नाम लेना, स्मरण, देवता के उद्देश्य से गाया जानेवाला गीत, स्तोत्र, गुण-कीर्तन ।

भजना—(हि.क्रि.अ., स.) सेवा करना, जपना, आश्रित होना, आश्रय लेना, देवता आदि का नाम वार-वार लेना, भाग जाना, प्राप्त होना, पहुँचना ।

भजनानन्द—(सं.पुं.) वह आनन्द जो परमेश्वर का नाम लेने से प्राप्त होता है ।

भजनानदी—(सं.वि.,पुं.) (वह) जो दिन-रात भजन करने में मस्त रहता है ।

भजनी—(हि.वि.) भजन गानेवाला ।

भजनीय—(सं.वि.) विभाग करने योग्य, सेवा करने योग्य, आश्रय लेने योग्य ।

भजमान—(सं.वि.) विभाग करनेवाला, सेवा करनेवाला ।

भजाना—(हि.क्रि.स.) दौड़ाना, भगाना, दूर करना ।

भजियाउर—(हि.स्त्री.) एक प्रकार का भोजन जो दही, चावल, घी आदि को एक साथ पकाकर बनाया जाता है ।

भज्य—(सं.वि.) सेवा करने योग्य, भजने योग्य ।

भट—(सं.पुं.) युद्ध करने या लड़नेवाला योद्धा, वीर, सैनिक, एक वर्णसंकर जाति ।

भटकटाई, भटकटैया—(हि.स्त्री.) एक छोटा काँटेदार पीघा जिसके पत्तों पर काँटे होते हैं ।

भटकना—(हि.क्रि.अ.) भ्रम में पड़ना, मार्ग भूल जाना, इधर-उधर घूमते फिरना ।

भटका—(हि.पुं.) चक्कर, व्यर्थ घूमना ।

भटकाना—(हि.क्रि.स.) भ्रम में डालना, धोखा देना ।

भटकैया—(हि.वि.) भटकने या भटकानेवाला ।

भटकाँहा—(हि.वि.) भ्रम में डालनेवाला ।

भटतीतर—(हि.पुं.) एक प्रकार की चिड़िया ।

भटवर्मा—(हि.वि.) वीर धर्म का पालन करनेवाला, सच्चा वीर ।

भटनास—(हि.स्त्री.) एक प्रकार की लता जिसकी फलियों के दानों की दाल बनाई जाती है ।

भटनेरा—(हि.पुं.) वैप्यो की एक जाति है ।

भटभेरा—(हि.पुं.) दो वीरों का सामना, आकस्मिक मिलन, अनायास होनेवाली भेंट, टक्कर, धक्का ।

भटा—(हि.पुं.) भंटा, वेगन ।

भटियारा—(हि.पुं.) देखें 'भठियारा' ।

भटियारिन—(हि.स्त्री.) भठियारे की स्त्री ।

भटियारी—(सं.स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।

भटियाल—(हि.अव्य.) नदी की धारा की ओर ।

भटू—(हि.स्त्री.) प्रिय अलि, सखी, एक आदरसूचक शब्द जो स्त्रियाँ आपस में संबोधन के लिए कहती हैं ।

भटेरा—(हि.पुं.) वैश्यों की एक जाति ।

भटैया—(हि.स्त्री.) देखें 'भटकटैया' ।

भटोट—(हि.पुं.) यात्रियों के गले में फाँसी लगाकर लूटनेवाला ठग ।

भटोला—(हि.वि.) माट के योग्य; (पुं.) वह भूमि जो माट को दी गई हो ।

भट्ट—(सं.पुं.) महाराष्ट्री ब्राह्मणों की एक उपाधि, पण्डित, योद्धा, माट, सूर ।

भट्टप्रयाग—(सं.पुं.) गंगा और यमुना का संगम-स्थान ।

भट्टारक—(सं.पुं.) नाटकों में राजा इस नाम से पुकारा जाता है, सूर्य, देव, पूज्य व्यक्ति ।

भट्टारकवार—(सं.पुं.) आदित्यवार, रविवार ।

भट्टिनी—(सं.स्त्री.) ब्राह्मण की भार्या, नाटक की भाषा में राजा की वह पत्नी जिसका अभिषेक न हुआ हो ।

भट्टी—(हि.स्त्री.) देखें 'भटठी' ।

भट्ठा—(हि.पुं.) बड़ी भट्ठी, ईंट, खपड़े आदि पकाने का पजावा, हलवाई का बड़ा चूल्हा ।

भट्ठी—(हि.स्त्री.) चूल्हा, देशी मद्य बनाने का कार्यालय ।

भठियाना—(हि.क्रि.अ.) समुद्र में माटा आना, समुद्र के पानी का नीचे उतरना ।

भठियारपन—(हि.पुं.) भठियारों की तरह लड़ना और गाली बकना ।

भठियारा—(हि.पुं.) सराय का प्रबंध करनेवाला ।

भठियाल—(हि.पुं.) देखें 'भाटा' ।

भठुली—(हि.स्त्री.) ठठेरों की छोटी भट्ठी ।

भठुवा—(हि.पुं.) आडंबर, दिखावा शान ।

भडक—(हि.स्त्री.) दिखावा चमक-दमक, चमकीलापन, भडकने का भाव; -दार—(वि.) चमकीला, भडकीला ।

भडकना—(हि.क्रि.अ.) प्रज्वलित होना, वेग से जल उठना, क्रुद्ध होना, चौकना, घोड़े आदि का डरकर पीछे हटना ।

भडकाना—(हि.क्रि.स.) प्रज्वलित करना, जलाना, चमकाना, बढ़ावा देना, उत्तेजित करना, उभाड़ना, भयभीत करना ।

भडकीला—(हि.वि.) भडकदार, चमकीला, डरकर उत्तेजित होनेवाला, चौकन्ना होनेवाला; -पन—(पुं.) भडकीला होने का भाव या क्रिया ।

भडभड—(हि.स्त्री.) किसी पोली वस्तु पर आघात से उत्पन्न शब्द, जनसमूह, भीड़भाड़, व्यर्थ बकवास, अधिक वार्ता ।

भडभड़ाना—(हि.क्रि.अ., स.) भडभड़ शब्द करना, व्यर्थ बकवाद करना ।

भडभड़िया—(हि.वि.) व्यर्थ बातें करनेवाला, बकवादी, गप्पी ।

भडभाँड़—(हि.पुं.) एक कँटीला पीघा, घमोय ।

भडभूजा—(हि.पुं.) हिन्दुओं की एक छोटी जाति जो माड़ में अन्न भूनने का काम करती है ।

भडवा—(हि.पुं.) देखें 'भडुआ' ।

भडसाई—(हि.स्त्री.) भडभूजे का भाड़ ।

भडसार्य—(हि.स्त्री.) देखें 'भंडरिया' ।

भडार—(हि.पुं.) देखें 'भंडार' ।

भडाल—(हि.पुं.) वीर, योद्धा, लड़ाका ।

भडिहा—(हि.पुं.) तस्कर, चोर, ठग ।

भडिहाई—(हि.अव्य.) चोरों की तरह लुक-छिपकर; (स्त्री.) चोरी ।

भडो—(हि.स्त्री.) वह उत्तेजना जो किसी को मूर्ख बनाने या उत्तेजित करने के लिये दी जाय, झूठा बढ़ावा ।

भडुआ—(हि.पुं.) वह जो रंडियों की दलाली करता हो, रंडियों के साथ तबला या सारंगी बजानेवाला ।

भडुर, भडडर—(हि.पुं.) ब्राह्मणों में निम्न श्रेणी की एक जाति, (इस जाति के लोग ग्रहों का दान लेते और तीर्थों में यात्रियों को दर्शन आदि कराते हैं), भंडर ।

भणन—(सं.पुं.) कथन, उक्ति ।

भणना—(हि.क्रि.स.) कहना ।

भणित—(सं.वि.) कथित, कहा हुआ; (पुं.) कही हुई बात ।

भतवान—(हि.पुं.) विवाह की एक रीति जिसमें कन्या-पक्ष के लोग वर-पक्ष के लोगों को कच्ची रसोई खिलाते हैं ।

भतार—(हि.पुं.) भर्ता, पति ।

भतौजा—(हि.पुं.) माई का पुत्र ।

भनुआ—(हि.पुं.) सफेद कुम्हड़ा, पेठा ।

भत्ता—(हि.पुं.) किसी कर्मचारी को वेतन के उपरांत दिया जानेवाला यात्रा-व्यय आदि ।

भदंत-(हि. पुं.) बौद्ध संन्यासी ।
 भदई-(हि. वि.) भादों के महीने का;
 (स्त्री.) भादों के महीने में तैयार होने-
 वाली उपज ।
 भद्रभद्र-(हि. वि.) बहुत मोटा, भद्रा ।
 भद्रयल-(हि. पुं.) मेढक ।
 भद्रावर-(हि. पुं.) ग्वालियर राज्य का
 एक प्रान्त जहाँ के बँल बड़े प्रसिद्ध होते हैं ।
 भद्रेस-(हि. वि.) कुरूप, भद्रा ।
 भद्रेसिल-(हि. वि.) भद्रा, कुरूप ।
 भद्रौह (हा)-(हि. वि.) भादों महीने में
 होनेवाला ।
 भद्रा-(हि. वि.) जो देखने में सुन्दर न
 हो, कुरूप, बेढंगा, अशिष्ट; -पन-(पुं.)
 कुरूपता, बेढगापन, अशिष्टता ।
 भद्र-(सं. पुं.) क्षेम, कुशल, ज्योतिष में
 एक करण का नाम, महादेव, खंजन
 पक्षी, बँल, कदंब, ब्रज के एक वन का
 नाम, स्वरसाधन की एक प्रणाली,
 बलदेवजी के एक सहोदर भाई, विष्णु
 का एक द्वारपाल, सुमेरु पर्वत, चन्दन,
 सोना, उत्तर दिशा के दिग्गज का नाम;
 (वि.) सम्य, श्रेष्ठ, कल्याणकारी;
 (हि. पुं.) सिर, दाढ़ी तथा मूँड के
 बालों का मुंडन; -क-(पुं.)
 देवदारु, बाइस अक्षरों का एक
 छन्द; -कपिल-(पुं.) शिव, महादेव;
 -काय-(पुं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र
 का नाम; -कार, -कारक-(वि.)
 कल्याण करनेवाला; -काली-(स्त्री.)
 कात्यायनी, दुर्गा की एक मूर्ति;
 -गणित-(पुं.) बीज-गणित के अन्तर्गत
 एक गणित जो चक्रविन्यास की क्रिया
 आदि से संबद्ध है; -ता-(स्त्री.)
 सम्यता, शिष्टता, भलमनसी; -धन-
 (पुं.) नागरमोथा; -नामन्-(पुं.)
 कठफोड़वा नामक पक्षी; -पदा-(स्त्री.)
 पूर्वाभाद्रपद तथा उत्तराभाद्रपद नक्षत्र;
 -पीठ-(पुं.) वह सिंहासन जिस पर
 राजाओं या देवताओं का अधिषेक किया
 जाता है; -बला-(स्त्री.) माधवी लता;
 -रूपा-(स्त्री.) सुन्दर स्त्री; -वती-
 (स्त्री.) श्रीकृष्ण की एक कन्या का
 नाम; -वसन-(पुं.) सुन्दर पहिनावा;
 -विराट्-(पुं.) एक वणिज वृत्त का
 नाम; -शील-(वि.) सच्चरित्र, जिसका
 आचरण अच्छा हो; -पञ्जी-(स्त्री.)
 दुर्गा देवी; -सोमा-(स्त्री.) गंगा नदी ।
 भद्रा-(सं. स्त्री.) आकाशगंगा, फलित
 ज्योतिष में द्वितीया, सप्तमी और

द्वादशी तिथियों का मान, शमी, हल्दी,
 गाय, केकय राज की कन्या जो कृष्ण
 को व्याही थी, सुभद्रा का एक नाम,
 पिंगल में उपजाति का एक भेद, बाघा,
 अङ्गन, पृथ्वी, फलित ज्योतिष के अनु-
 सार एक अशुभ योग का नाम ।
 भद्राकरण-(सं. पुं.) मूँडन, सिर का
 बाल मुड़वाना ।
 भद्रानंद-(सं. पुं.) स्वरसाधना की
 एक प्रणाली ।
 भद्रावती-(सं. स्त्री.) कटहल का वृक्ष ।
 भद्राश्रय-(सं. पुं.) चन्दन ।
 भद्रासन-(सं. पुं.) देखे 'भद्रपीठ' ।
 भद्रिका-(सं. स्त्री.) भद्रा तिथि, एक
 वर्णवृत्त का नाम ।
 भद्रो-(सं. वि.) मान्यवान् ।
 भद्रेला-(सं. स्त्री.) बड़ी इलायची ।
 भनक-(हि. स्त्री.) भनभन की आवाज,
 घीमा शब्द, ध्वनि, जनश्रुति ।
 भनकना-(हि. क्रि. अ.) धीरे से बोलना
 या कहना ।
 भनना-(हि. क्रि. स.) कहना ।
 भनभनाना-(हि. क्रि. अ.) भनभन शब्द
 करना, गुंजार करना ।
 भनभनाहट-(हि. स्त्री.) भनभनाने का
 शब्द, गुंजार ।
 भनित-(हि. वि.) देखें 'भणित' ।
 भपति-(सं. पुं.) चन्द्रमा ।
 भवका-(हि. पुं.) अर्क उतारने या मद्य
 चुआने का यन्त्र ।
 भभक-(हि. स्त्री.) भभकने की क्रिया या
 भाव, लालटेन की टेम का भभक कर
 बुता जाना ।
 भभकना-(हि. क्रि. अ.) मिट्टी का तेल
 आदि पड़ने के कारण लौ का ऊपर उठ-
 कर बुता जाना, प्रज्वलित होना, भड़-
 कना, जोर से जल उठना ।
 भभका-(हि. पुं.) देखें 'भवका' ।
 भभकी-(हि. स्त्री.) झूठी धमकी, धुड़की ।
 भभरना-(हि. क्रि. अ.) डरना, घबड़ाना,
 भयभीत होना, भ्रम में पड़ना ।
 भभीरी-(हि. स्त्री.) झींगुर ।
 भभूत-(हि. पुं., स्त्री.) वह भस्म जिसको
 शैव भक्त माथे तथा मुजा पर लगाते हैं ।
 भभभ-(सं. पुं.) मक्खी, मच्छड़, घुवाँ ।
 भभभ(वभ)ड़-(हि. स्त्री.) जनसमुदाय,
 भीड़माड़ ।
 भयंकर-(सं. वि.) डरावना, भयजनक,
 जिसको देखने से भय लगे; -ता-(स्त्री.)
 भयंकर होने का भाव, भीषणता ।

भय-(सं. पुं.) वह भाव या मनोविकार
 जो किसी आनेवाली आपत्ति या आशंका
 से उत्पन्न होता है; -कर-(वि.) भय-
 कारक, जिसको देखकर डर लगे; -कर्ता-
 (वि.) भयानक; भय उत्पन्न करने-
 वाला; -जात-(वि.) भय से उत्पन्न;
 -द-(वि.) भय उत्पन्न करनेवाला;
 -दायी-(वि.) डरावना; -नाशन-
 (पुं.) विष्णु; -प्रद-(वि.) भयानक,
 जिसको देखकर भय उत्पन्न हो;
 -भीत-(वि.) जिसके मन में भय
 उत्पन्न हुआ हो, डरा हुआ; -भ्रष्ट-
 (वि.) जो डर के मारे भागा हो;
 -भोचन-(वि.) भय दूर करनेवाला;
 -हरण-(वि.) भय का नाश करनेवाला;
 -हारी-(वि.) डर दूर करनेवाला ।
 भया-(हि. क्रि. अ.) होना क्रिया का भूत-
 कालिक रूप, हुआ (बोलचाल का शब्द) ।
 भयाकुल-(सं. वि.) डर से घबड़ाया हुआ ।
 भयातिसार-(सं. पुं.) डर के कारण बहुत
 शौच होना ।
 भयानुर-(सं. वि.) डर से घबड़ाया हुआ ।
 भयान-(हि. वि.) देखें 'भयानक' ।
 भयानक-(सं. वि.) भयंकर, डरावना,
 जिसको देखने से भय लगता हो; (पुं.)
 व्याघ्र, राहु, साहित्य मवह रस जो भीषण
 दृश्यों के वर्णन से उत्पन्न होता रहता है ।
 भयाना-(हि. क्रि. अ., स.) डरना, डराना ।
 भयापह-(सं. वि.) भयनाशक ।
 भयारा-(हि. वि.) भयानक, डरावना ।
 भयावन-(हि. वि.) डरावना ।
 भयावह-(सं. वि.) भयंकर, डरावना ।
 भयावहा-(सं. स्त्री.) रात्रि, रात ।
 भय्या-(हि. पुं.) मैया, भाई ।
 भरंड-(सं. पुं.) स्वामी, मालिक, राजा,
 बँल, पृथ्वी, कृमि, कीड़ा ।
 भरंत-(हि. स्त्री.) भ्रान्ति, सन्देह ।
 भर-(सं. वि.) अतिशय, बहुत, पूरा, कुल,
 भरण करनेवाला; (पुं.) भार, बोझ,
 संग्राम, दो सौ पलों का एक परिमाण;
 (हि. पुं.) पुष्टि, मोटाई, एक अस्पृश्य
 हिंदू जाति; (अव्य.) द्वारा, बल से ।
 भरक-(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्षी,
 देखें 'भड़क' ।
 भरकना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'भड़कना'
 सुखाने के लिए धूप में रखे गये अनाज
 को नमी का धीरे-धीरे सूखना ।
 भरका-(हि. पुं.) वह मिट्टी जो काली
 और चिकनी हो, ऐसी मिट्टी का खेत ।
 भरट-(सं. पुं.) कुम्हार, सेवक ।

भरण—(सं. पुं.) पालन-पोषण, मरणी नक्षत्र, पूति या बदले में दिया जानेवाला पदार्थ, भरती ।
 भरणी—(सं. स्त्री.) सत्ताईस नक्षत्रों में से दूसरा नक्षत्र, (इसकी आकृति त्रिकोण-जैसी है); —भू—(पुं.) राहु ग्रह ।
 भरणीय—(सं. वि.) पालने-पोसने योग्य ।
 भरण्य—(सं. पुं.) मूल्य, वेतन ।
 भरण्यु—(सं.पुं.) मेघ, अग्नि, ईश्वर, बैल ।
 भरत—(सं. पुं.) एक मुनि जो नाट्य-शास्त्र के सृष्टिकर्ता थे, नट, जुलाहा, खेत, कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न राजा दशरथ के पुत्र, रामचन्द्र के छोटे भाई, शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न दुष्यन्त के पुत्र जिनका जन्म कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ था, उत्तर भारत का प्राचीन नाम, संगीतशास्त्र के एक आचार्य का नाम; (पुं.) लवा पक्षी, काँसा, कसकुट; —खंड—(पुं.) प्राचीन पुराणों के अनुसार पृथ्वी के नव-खंडों में से एक, भारतवर्ष; —प्रसू—(स्त्री.) भरत की माता कैकेयी ।
 भरतरी—(हिं. स्त्री.) पृथ्वी ।
 भरता—(हिं. पुं.) एक प्रकार का सालन जो भंटा, अरुई, आलू आदि को भूनकर बनाया जाता है, चोखा ।
 भरताग्रज—(सं. पुं.) श्रीरामचन्द्र ।
 भरतार—(हिं. पुं.) पति, स्वामी ।
 भरताश्रम—(सं.पुं.) भरत मुनि का आश्रम ।
 भरतिया—(हिं. वि.) कसकुट या काँसे का बना हुआ; (पुं.) कसकुट का पात्र बनानेवाला, टटेरा ।
 भरती—(हिं. स्त्री.) मरे जाने का भाव, भरा जाना, प्रवेश, वह नाव जिसमें माल लादा जाता हो, नवकाशी या चित्रकारी में बीच का खाली स्थान भरना, ज्वार, बाढ़, सेना आदि में नियुक्ति; (क्रि. प्र.)—करना—दाखिल या नियुक्त करना ।
 भरथ—(सं. पुं.) लोकपाल; (हिं. पुं.) देखें 'भरत' ।
 भरथरी—(हिं. पुं.) देखें 'भर्तृहरि' ।
 भरदूल—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।
 भरद्वाज—(सं. पुं.) एक ऋषि का नाम, इनके वंशजों के गोत्र का नाम, एक प्रकार का पक्षी ।
 भरना—(हिं. क्रि. अ., स.) पूर्ण करना, रिक्त स्थान को पूरा करने के लिये कोई वस्तु डालना, उड़ेलना, ऋण चुकाना, यरीर या अंगों का हृष्ट-पुष्ट होना, घाव के गड्ढे का बराबर होना, अवकाश या छिद्र का बंद होना,

तोप या बन्दूक में गोली-बारूद आदि डालना, पशुओं पर बोझ लादना, पद पर नियुक्त करना, निर्वाह करना, काटना, खेत म पानी देना, कुएँ से घड़े आदि में पानी लाना, निन्दा करना, कठिन्ता से समय बिताना या काटना, सहना, झेलना; (मुहा.) घर भरना—अधिक धन देना; (हिं. पुं.) भरने की क्रिया या भाव, उत्कोच, घूस ।
 भरनि—(हिं. स्त्री.) पहिनावा ।
 भरनी—(हिं. स्त्री.) करघे की ढरकी, नार, छछूंदर, मोरनी, एक प्रकार की जंगली वृत्ती ।
 भरपाई—(हिं. अव्य.) मली-भाँति, पूर्ण रूप से; (स्त्री.) प्राप्य या बाकी धन पूरा-पूरा पा जाना, वह रसीद जो ऋण चुकता हो जाने पर दी जाय ।
 भरपूर—(हिं. वि.) जो पूरी तरह से भरा हुआ हो, परिपूर्ण; (अव्य.) पूर्ण रूप से, मली-भाँति, अच्छी तरह, पूरा करके; (पुं.) समुद्र का ज्वार ।
 भर-पेट—(हिं. अव्य.) पेट भरकर, जी भरकर ।
 भरभराना—(हिं. क्रि. अ.) रोआँ खड़ा होना, घबड़ाना ।
 भरभराहट—(हिं. स्त्री.) घबड़ाहट ।
 भरभुजा—(हिं. पुं.) देखें 'भड़भुजा' ।
 भरभटा—(हिं. पुं.) सामना ।
 भरम—(हिं. पुं.) भ्रम, भ्रान्ति, संशय, सन्देह, धोखा, भेद, रहस्य; (मुहा.)—घँवाना—भेद खोलवाना ।
 भरमना—(हिं. क्रि. अ.) भटकना, धोखे में पड़ना, मारा-मारा फिरना, चलना, घूमना; (स्त्री.) भ्रम, भ्रान्ति, मूल ।
 भरमाना—(हिं. क्रि. अ., स.) भ्रम या चक्कर में डालना, वहकाना, चकित होना, हैरान होना ।
 भरमार—(हिं. स्त्री.) आधिक्य, अधिकता ।
 भरराना—(हिं. क्रि. अ., स.) भर-भर शब्द करते हुए गिरना, अरराना, टूट पड़ना, दूसरे को टूट पड़ने में प्रवृत्त करना ।
 भरल—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की जंगली मेड़ ।
 भरवाई—(हिं. स्त्री.) भरवाने की क्रिया या भाव, भरवाने का वेतन ।
 भरवाना—(हिं. क्रि. स.) भरने का काम दूसरे से कराना ।
 भरसक—(हिं. अव्य.) यथाशक्ति, जितना हो सके ।
 भरसन—(हिं. स्त्री.) भर्त्सना, डाँट-फटकार ।

भरसाई—(हिं. पुं.) देखें 'भाड़' ।
 भरहरना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'भरमराना' ।
 भरहराना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'भहराना' ।
 भरति—(हिं. स्त्री.) देखें 'भ्राति' ।
 भरआई—(हिं. स्त्री.) भरने की क्रिया या भाव, भरने का शुल्क ।
 भरपूरा—(हिं. वि.) जिसमें किसी बात की न्यूनता न हो, संपन्न ।
 भरव—(हिं. पुं.) भरने का भाव, भरने का काम, कशीदा काढ़ने में बेल-चूटों के बीच के स्थान को तागों से भरना ।
 भरित—(हिं. वि.) भरा हुआ, पाला हुआ, जिसका पालन-पोषण किया गया हो ।
 भरिया—(हिं. वि.) भरनेवाला, पूर्ण करनेवाला, ऋण चुकानेवाला; (पुं.) ढलाई करनेवाला मनुष्य ।
 भरी—(हिं. स्त्री.) दस मासे या एक रुपये के बराबर की तौल ।
 भरु—(सं.पुं.) विष्णु, शिव, समुद्र, स्वामी, सुवर्ण; (हिं. पुं.) बोझ, भार ।
 भरुआ—(हिं. पुं.) देखें 'भड़आ', टसर ।
 भरुकच्छ—(सं.पुं.) भरोच देशका प्राचीन नाम ।
 भरुज—(सं. पुं.) सियार ।
 भरुहाना—(हिं. क्रि. अ., स.) गर्व करना, धमंड करना, धोखा देना, वहकाना, उत्तेजित करना, बढ़ावा देना ।
 भरुही—(हिं. स्त्री.) लेखनी बनाने की एक प्रकार की किलिक ।
 भरोठ—(हिं. पुं.) द्वार के ऊपर लगाई हुई लकड़ी जिस पर भीत टिकी रहती है ।
 भरर्या—(हिं. वि.) पालन करनेवाला, जो भरता हो ।
 भरोसा—(हिं. पुं.) अवलम्बन, आश्रय, आसरा, सहारा, आशा, दृढ़ विश्वास ।
 भरोसी—(हिं. वि.) भरोसा या आसरा करनेवाला, आश्रित, विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जाय ।
 भरोती—(हिं. स्त्री.) वह रसीद जिसमें भरपाई लिखी गई हो ।
 भरोना—(हिं. वि.) बोझल, भारी ।
 भर्ग—(सं.पुं.) शिव, महादेव, भूना हुआ अन्न ।
 भर्जन—(सं. पुं.) भूना हुआ अन्न ।
 भर्तव्य—(सं. वि.) भरण-पोषण करने योग्य ।
 भर्ता—(सं. पुं.) अधिपति, विष्णु, मालिक, स्वामी, पति ।
 भर्तार—(हिं. पुं.) पति, स्वामी ।
 भर्तृघ्नी—(सं. स्त्री.) पतिघातिनी ।
 भर्तृत्व—(सं.पुं.) पति का भाव या धर्म ।
 भर्तृमती—(सं. स्त्री.) सचवा स्त्री ।
 भर्तृहरि—(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध कवि

कथा, लम्बा-चोड़ा विवरण, महायुद्ध, संग्राम, भारतवर्ष; -खंड- (पुं.) देखें 'भारतवर्ष'; -वर्ष- (पुं.) वह देश जो उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में सिन्धु नदी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है, हिन्दुस्तान।

भारती- (सं. स्त्री.) वचन, वाक्य, सरस्वती, ब्राह्मी, संन्यासियों के दस उपाधियों में से एक, वह वृत्ति या वर्णन-शैली जिसमें रौद्र और वीमत्स रसों का वर्णन किया जाता है।

भारतीय- (सं. वि.) भारत-सम्बन्धी, भारत का; (पुं.) भारतवासी।

भारतुला- (सं. स्त्री.) खंभे का मध्य-भाग।

भारतेश्वर- (सं. पुं.) राजा भरत।

भारथ- (सं. पुं.) भारद्वाज पक्षी; (हि. पुं.) देखें 'भारत', युद्ध, संग्राम।

भारथी- (हि. पुं.) योद्धा, सिपाही।

भारदंड- (हि. पुं.) एक प्रकार का व्यायाम।

भारद्वाज- (सं. पुं.) एक ऋषि का नाम, द्रोणाचार्य, अगस्त्य मुनि, मंगल ग्रह, बृहस्पति के पुत्र, भरद्वाज पक्षी; (वि.) भरद्वाज के कुल में उत्पन्न।

भारना- (हि. क्रि. स.) मार लाटना।

भारभारी, भारभूत- (सं. वि.) बोझ ढोनेवाला; (पुं.) विष्णु।

भारथष्टि- (सं. स्त्री.) भार ढोने का ढण्ड, वहंगी।

भारव- (सं. पुं.) घनुष की रस्ती।

भारवाह, भारवाहक- (सं. पुं., वि.) बोझ ढोनेवाला।

भारवाही- (सं. पुं., वि.) देखें 'भारवाह'।

भारवि- (सं. पुं.) एक प्राचीन कवि जिन्होंने किरातार्जुनीय नामक महाकाव्य रचा था।

भारवी- (सं. पुं.) तुलसी का पौधा।

भारा- (हि. वि.) देखें 'भारी'; (पुं.) देखें 'भाड़ा'।

भाराक्रांता- (सं. स्त्री.) एक वर्ण-वृत्त का नाम।

भारावलंकत्व- (सं. पुं.) पदार्थों के परमाणुओं का परस्पर आकर्षण, (अनेक पदार्थों में ऐसा गुण होने के कारण वे टट नहीं सकते।)

भारिक- (सं. पुं.) बोझ ढोनेवाला।

भारी- (हि. वि.) गुरु, अधिक भार का; (हि. वि.) कठिन, विशाल, अधिक, अत्यन्त, असह्य, उदास, गम्भीर, प्रबल, पात, देर में पचनेवाला; -पन- (पुं.) भारी होने का भाव, गुरुत्व।

भारूप- (सं. पुं.) चिदात्मक आत्मा।

भार्गव- (सं. वि.) भृगु-संबन्धी, भृगु से उत्पन्न; (पुं.) शुक्याचार्य, परशुराम, शिव, हाथी, एक हिन्दू जाति।

भार्गवी- (सं. स्त्री.) पार्वती, लक्ष्मी।

भार्गवेश- (सं. पुं.) परशुराम।

भार्या- (सं. स्त्री.) शास्त्र-विधि से विवाहिता पत्नी, जाया, दारा, कलत्र; -त्व- (पुं.) भार्या का भाव या धर्म।

भाल- (सं. पुं.) ललाट, मस्तक, कपाल; (हि. पुं.) भाला, बरछा, तीर की नोक, मालू, रीछ; -चंद्र- (पुं.) शिव, महादेव, गणेश; -दर्शन- (पुं.) सिन्दूर, सेंदुर।

भालना- (हि. क्रि. स.) ध्यानपूर्वक या अच्छी तरह देखना, (देखना के साथ प्रयुक्त)।

भालनेत्र, भाललोचन- (सं. पुं.) महादेव, शिव।

भालवी- (हि. पुं.) रीछ, मालू।

भालांक- (सं. पुं.) कच्छप, कछुआ, शिव, ललाट पर का चिह्न।

भाला- (हि. पुं.) बरछा, बल्लम; -बरदार- (पुं.) बरछा चलानेवाला।

भालि- (हि. स्त्री.) बरछी, शूल, कांटा।

भाली- (हि. स्त्री.) भाले की नोक, कांटा।

भालुक- (सं. पुं.) मल्लुक, मालू, रीछ।

भालुनाथ- (हि. पुं.) जामबन्त।

भालू- (हि. पुं.) एक स्तनपायी, भयंकर और वन्य चौपाया जिसके शरीर पर लंबे-लंबे बाल होते हैं, रीछ।

भावता- (हि. पुं.) भावी, होनहार।

भावैर- (हि. पुं.) एक प्रकार की घास।

भाव- (सं. पुं.) मन का विकार, सत्ता, अभिप्राय, स्वभाव, जन्म, चित्त, आत्मा, चेष्टा, संसार, उपदेश, योनि, प्रेम, बुध, जन्तु, विभूति, विषय, क्रिया, लीला, पदार्थ, चोचला, मुख की आकृति या चेष्टा, आदर, प्रतिष्ठा, देवता के प्रति श्रद्धा, भक्ति, कल्पना, ढंग, अवस्था, विश्वास, भावना, नायक या नायिका के मन में उत्पन्न होनेवाला विकार, शरीर या अंगों का मोहक संचालन; (हि. पुं.) दर; (मुहा.) -गिरना- किसी वस्तु का दाम घटना; -देना- आकृति द्वारा मन का भाव प्रकट करना।

भावइ- (हि. अव्य.) जो इच्छा हो, जो जो चाहे।

भावक- (सं. पुं.) मन का विकार, भाव, भक्त, प्रेमी; (वि.) भावपूर्ण, भाव से भरा हुआ, भाव करनेवाला, उत्पन्न करनेवाला; (अव्य.) किंचित्, थोड़ा।

भावगंभीर- (सं. वि.) जिसका भाव या तात्पर्य कठिन हो।

भावगति- (हि. स्त्री.) विचार, इच्छा।

भावगम्य- (सं. वि.) भक्तिभाव या मनन से जानने योग्य।

भावग्राही- (सं. वि.) भाव समझनेवाला।

भावग्राह्य- (सं. वि.) भाव से ग्रहण करने योग्य।

भावज- (सं. वि.) भाव से उत्पन्न; (हि. स्त्री.) भाई की स्त्री, मौजाई।

भावता- (हि. वि.) प्रिय, जो अच्छा जान पड़े; (पुं.) प्रियतम।

भावताव- (हि. पुं.) किसी वस्तु का मूल्य या भाव।

भावदया- (सं. स्त्री.) किसी जीव को दुःखित देखकर मन में दया उत्पन्न होना।

भावदर्शी- (सं. वि.) भाव को समझनेवाला।

भावन- (हि. वि.) जो प्रिय या अच्छा जान पड़े।

भावना- (सं. स्त्री.) अनुभव तथा स्मृति से उत्पन्न होनेवाला चित्त का एक धनीभूत संस्कार, भाव, कल्पना, साधारण विचार या कल्पना, ध्यान, इच्छा, वैद्यक के अनुसार किसी चर्ण आदि को किसी रस या तरल पदार्थ में बार-बार मिलाकर घोटना तथा सुखाना; (हि. क्रि. अ.) अच्छा लगना; (वि.) प्रिय, प्यारा।

भावनश्रय- (सं. पुं.) शिव का एक नाम।

भावनि- (हि. स्त्री.) मन की बात, वह भाव जो चित्त में आवे।

भावनोय- (सं. वि.) चिन्ता या विचार के योग्य।

भावप्रकाश- (सं. पुं.) वैद्यक का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ।

भावबंधन- (सं. पुं.) प्रेम-पाश में बांधना।

भावबोधक- (सं. पुं., वि.) (वह) जिसके द्वारा भाव का बोध हो।

भावभक्ति- (हि. स्त्री.) आदर-सत्कार।

भावयितव्य- (सं. वि.) चिन्ता के योग्य।

भावयिता- (सं. पुं.) पालने-पोसनेवाला।

भावरूप- (सं. वि.) प्रकृत, यथार्थ।

भावली- (हि. स्त्री.) वह खेत जिसकी उपज की बटाई भूस्वामी और कृषक के बीच होती है।

भाववाचक- (सं. पुं.) व्याकरण में वह संज्ञा जिससे किसी पदार्थ का भाव, गुण, धर्म आदि सूचित होता है; यथा- सरलता, मनुष्यत्व इत्यादि।

भाववाच्य- (सं. पुं.) व्याकरण में क्रिया का वह रूप जिससे यह विदित होता है

कि वाक्य का उद्देश्य-शब्द उस क्रिया का कर्ता या कर्म नहीं है परन्तु क्रिया का भाव ही प्रधान है, (इसमें कर्ता के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है); यथा-रोगी से खाया नहीं जाता।

भाववृत्त-(सं. पुं.) ब्रह्मा; (वि.) सृष्टि-संबंधी।

भावसंधि-(सं. स्त्री.) वह अलंकार जिसमें दो भावों की सन्धि का वर्णन रहता है।

भावसत्य-(सं. वि.) ऐसा सत्य जो भाव-बोध से सच्चा जान पड़े।

भावशबलता-(सं. स्त्री.) वह अलंकार जिसमें कई भावों का आलंकारिक वर्णन एक साथ किया जाता है।

भावात्मक-(सं. वि.) किसी विषय की आत्मिक अवस्था का सूत्रक, भाव से संबद्ध।

भावाभाव-(सं. पुं.) एक अलंकार का नाम।

भावार्थ-(सं. पुं.) वह अर्थ या टीका जिसमें मूल का केवल भाव ही विस्तृत व्याख्या न हो, अभिप्राय, तात्पर्य।

भावालंकार-(सं. पुं.) एक प्रकार का अलंकार।

भाविंक-(सं. पुं.) वह अलंकार जिसमें भूत या भावी बातें वर्तमान की तरह वर्णन की गईं हों; (वि.) मर्म जाननेवाला।

भावित-(सं. वि.) सोचा हुआ, चिंतित, सुगन्धित किया हुआ, मिला या मिलाया हुआ, शुद्ध किया हुआ, भेंट किया हुआ, (दवा) जिसमें रस आदि की भावना दी गई हो।

भावी-(हि. स्त्री.) भविष्य काल, आनेवाला समय, भाव्य, प्रारब्ध, भवितव्यता, अवश्य होनेवाली बात; (वि.) होनेवाला।

भावुक-(सं. पुं.) मंगल, -आनन्द, सज्जन, मला आदमी; (वि.) भावना करनेवाला, सोचनेवाला, अच्छी कल्पना करनेवाला, जिस पर अच्छे भावों का तुरंत प्रभाव पड़ता है।

भाव-(हि. अव्य.) जो जी चाहे।

भावोत्सर्ग-(सं. पुं.) बुरे भावों का त्याग।

भावोद्भय-(सं. पुं.) वह अलंकार जिसमें किसी भाव के उदय होने की अवस्था का वर्णन किया जाता है।

भाव्य-(सं. वि.) अवश्य होनेवाला, भावना करने योग्य।

भाष-(हि. पुं.) भाषा।

भाषक-(सं. पुं.) वक्ता, बोलनेवाला।

भाषज्ञ-(सं. पुं.) भाषा जाननेवाला।

भाषण-(सं. पुं.) वक्तृता, व्याख्यान, कथन, बातचीत।

भाषना-(हि. क्रि. स.) भोजन करना, खाना, बातचीत करना।

भाषांतर-(सं. पुं.) अनुवाद, उलथा।

भाषा-(सं. स्त्री.) वाक्य, बोली, किसी विशेष जनसमूह में प्रचलित बातचीत करने का ढंग, वह अव्यक्त शब्द जिससे पशु-पक्षी अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं, वाणी, आधुनिक हिन्दी भाषा, अभियोग-पत्र; -तत्त्व-(पुं.) भाषा-शास्त्र, भाषा-विज्ञान; -बद्ध-(वि.) साधारण देशभाषा में बना हुआ; -विज्ञान, -शास्त्र-(पुं.) वह शास्त्र जिसमें भाषा की उत्पत्ति, विकास आदि का विवेचन होता है; -सम-(पुं.) शब्दालंकार का वह भेद जिसमें केवल ऐसे शब्दों की योजना की जाती है जो अनेक भाषाओं में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं।

भाषित-(सं. वि.) कथित, कहा हुआ।

भाषी-(हि. वि.) कहने या बोलनेवाला।

भाष्य-(सं. पुं.) सूत्रों की व्याख्या या टीका, सूत्रग्रन्थों का विस्तृत विवेचन, किसी गूढ़ ग्रंथ की व्याख्या; -कार-(पुं.) सूत्रों की व्याख्या या टीका करनेवाला।

भास-(सं. पुं.) दीप्ति, प्रकाश, चमक, मुरगा, गिद्ध, मयूख, किरण, इच्छा, स्वाद, मिथ्या ज्ञान आभास, एक प्राचीन संस्कृत कवि; -क-(वि.) प्रकाशक, द्योतक; -कण-(पुं.) रावण की सेना का एक मुख्य नायक जिसको हनुमान ने मारा था; -मान-(वि.) दिखाई पड़ता हुआ; (हि. पुं.) सूर्य।

भासन-(सं. पुं.) दीपन, प्रकाशन।

भासना-(हि. क्रि. अ. स.) प्रकाशित होना, चमकना, कहना, लिप्त होना, दिखाई पड़ना, फँसना।

भासित-(सं. वि.) दिखाई पड़नेवाला, तेजोमय, चमकीला।

भासुर-(सं. पुं.) स्फटिक, विलौर, वीर, योद्धा।

भास्कर-(सं. पुं.) सूर्य, अग्नि, सुवर्ण, सोना, मदार का वृक्ष, शिव, महादेव, वीर, एक जाति के लोग जो पत्थर पर नक्काशी करते हैं; -विद्या-(स्त्री.) पत्थर पर नक्काशी करने की कला।

भास्कराचार्य-(सं. पुं.) भारतवर्ष के एक प्राचीन ज्योतिषिद् का नाम।

भास्वर-(सं. पुं.) सूर्य, दिन; (वि.) चमकीला।

भिग-(हि. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा, बिल्ली, भौरा।

भिगाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'भिगाना'।

भिजाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'भिगाना'।

भिडी-(हि. स्त्री.) एक पौधे की फली जिसकी तरकारी बनती है।

भिदपाल, भिदिपाल-(हि. पुं.) छोटा डंडा, ढेलवाँस।

भिक्षण-(सं. पुं.) भिक्षा माँगने की क्रिया।

भिक्षा-(सं. स्त्री.) याचन, माँगना, सेवा, भीख, माँगी हुई वस्तु; -करण-(पुं.) भीख माँगने का काम; -चर-(पुं.) भीख माँगनेवाला; -पात्र-(पुं.) भीख माँगने का पात्र; -वृत्ति-(स्त्री.) भीख माँगकर जीविका निर्वाह करना।

भिक्षाटन-(सं. पुं.) भीख माँगने के लिये इधर-उधर घूमना।

भिक्षार्थी-(सं. पुं.) भिक्षुक, भिखमंगा।

भिक्षु-(सं. पुं.) भीख माँगनेवाला, भिक्षुक, भिखारी, परिव्राजक, संन्यासी, बौद्ध संन्यासी; -क-(पुं.) भिक्षोपजीवी, भिखारी; -णी-(स्त्री.) बौद्ध संन्यासिनी; -रूप-(पुं.) शिव, महादेव।

भिखमंगा-(हि. पुं.) भिक्षुक, भिखारी।

भिखार-(हि. पुं.) भिखमंगा, भिखारी।

भिखारिन, भिखारिणी-(हि. स्त्री.) भीख माँगनेवाली स्त्री।

भिखारी-(हि. पुं.) भिक्षुक, भीख माँगनेवाला।

भिखिया-(हि. स्त्री.) देखें 'भिक्षा'।

भिगाना, भिगोना-(हि. क्रि. स.) किसी पदार्थ को पानी से तर करना, गीला करना।

भिच्छा-(हि. स्त्री.) देखें 'भिक्षा'।

भिच्छु-(हि. पुं.) देखें 'भिक्षु'।

भिजवना-(हि. क्रि. स.) भिगाने में दूसरे को प्रवृत्त करना।

भिजवाना-(हि. क्रि. स.) भेजने का काम दूसरे से कराना।

भिजा(जो)ना-(हि. क्रि. स.) भिगोना, तर करना, गीला करना।

भिज-(सं. पुं, वि.) जानकार, जाननेवाला।

भिठना-(हि. पुं.) छोटा गोल फल।

भिठनी-(हि. स्त्री.) स्तन के आगे का भाग।

भिड़-(सं. स्त्री.) बरें, ततैया।

भिड़ना-(हि. क्रि. अ.) लड़ना, झगड़ना, लड़ाई करना, टक्कर खाना, मैथुन करना, सटना।

भितल्ला-(हि. पुं.) दोहरे कपड़े का भीतरी पल्ला; (वि.) भीतर का।

भितल्ली-(हि. स्त्री.) चक्की के नीचे का पाट।

भित्ताना-(हि. क्रि. स.) भयभीत करना,

डराना ।

भित्ति—(सं. स्त्री.) दीवार, दरार, खंड, टुकड़ा, प्रवेश, अवकाश, अंतर, चित्र बनाने का आधार, नींव; -चित्र—(पुं.) दीवार पर बनाया हुआ चित्र ।

भिद—(हिं. पुं.) अन्तर, प्रभेद ।

भिदक—(सं. पुं.) वज्र, खड्ग, तलवार ।

भिदना—(हिं. क्रि. अ.) प्रवेश करना, घुसना, छेदा जाना, चोट खाना ।

भिदा—(सं. स्त्री.) घन्याक, घनिया ।

भिदिर, भिदुर—(सं. पुं.) वज्र ।

भिद्य—(सं. वि.) भेदनीय ।

भिद्र—(सं. पुं.) वज्र ।

भिनकना—(हिं. क्रि. अ.) मक्खियों का भिन-भिन शब्द करना, घृणा उत्पन्न होना, किसी गंदी चीज पर मक्खियों का बैठना ।

भिनभिना—(हिं. क्रि. अ.) भिनभिन शब्द करना ।

भिनसहरा, भिन (नु) सार—(हिं. पुं.) प्रातःकाल, सबेरा ।

भिनही—(हिं. अव्य.) प्रातःकाल, सबेरे ।

भिन्न—(सं. वि.) कटा हुआ, भेदित, अन्य,

दूसरा, प्रफुल्ल, खिला हुआ, पृथक्;

(पुं.) गणित में वह संख्या जो एकाई

से कम हो; -कर्ण—(वि.) जिसके कान

कट गये हों; -जातीय—(वि.) भिन्न-भिन्न

जातियों या सम्प्रदायों का; -ता—(स्त्री.)

भिन्न होने का भाव, भेद, अलगाव;

-त्व—(पुं.) भिन्नता; -लिंग—(पुं.)

एक अलंकार जिसमें भिन्न वचन और

भिन्न लिंग द्वारा उपमा दी जाती है,

पृथक् चिह्न; -वर्ण—(पुं.) पृथक् वर्ण ।

भिन्नायक—(सं. वि.) दूसरे अर्थ का ।

भियना—(हिं. क्रि. अ.) डरना ।

भिया—(हिं. पुं.) भ्राता, माई ।

भिरना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'भिड़ना' ।

भिरिंग—(हिं. पुं.) देखें 'भृंग' ।

भिलनी—(हिं. स्त्री.) भील जाति की स्त्री,

एक प्रकार का धारीदार कपड़ा ।

भिलावा—(हिं. पुं.) एक जंगली वृक्ष

जिसके फल औषधों में प्रयुक्त होते

हैं, मल्लताक ।

भिल्ल—(सं. पुं.) भील जाति ।

भियक—(सं. पुं.) चिकित्सक, वैद्य; -प्रिया—

(स्त्री.) गुरुच ।

भियज—(सं. पुं.) चिकित्सक, वैद्य, औषध ।

भिप्टा—(हिं. पुं.) देखें 'विष्ठा', मल, गू ।

भिसज—(हिं. पुं.) वैद्य ।

भिसटा—(हिं. पुं.) विष्ठा, मल, गू ।

भिसर—(हिं. पुं.) ब्राह्मण ।

भिसिणी—(हिं. पुं.) व्यसनी ।

भिस्स—(हिं. स्त्री.) कमल की जड़, भसींड ।

भिस्ता—(सं. स्त्री.) अन्न, पक्वान्न ।

भोगना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'भोगना' ।

भोगी—(हिं. पुं.) एक प्रकार का फतिगा ।

भोजना—(हिं. क्रि. स.) खींचना, कसना,

मुँदना, बंद करना ।

भोजना—(हिं. क्रि. अ.) आर्द्र होना,

गीला होना, प्रेम से मग्न होना, स्नान

करना, नहाना, समा जाना, घुस जाना,

हेल-मेल बढ़ाना ।

भोंट, भोंत—(हिं. पुं., स्त्री.) देखें 'भीट, भीत' ।

भी—(सं. स्त्री.) भय, डर; (अव्य.)

अवश्य, निश्चय करके, अधिक, तक ।

भीउं—(हिं. पुं.) भीम, भीमसेन ।

भीक—(सं. वि.) भीत, डरा हुआ ।

भीकर—(सं. वि.) भयंकर, डरावना ।

भीख—(हिं. स्त्री.) भिक्षा, उसे दी हुई वस्तु ।

भीखन—(हिं. वि.) विकराल, भीषण ।

भीखम—(हिं. पुं.) देखें 'भीष्म'; (वि.)

भयानक, डरावना ।

भोगना—(हिं. क्रि. अ.) आर्द्र होना, भोजना ।

भीचर—(हिं. पुं.) वीर ।

भोजना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'भोजना' ।

भीट—(हिं. पुं.) ऊँची भूमि, टीला ।

भीटा—(हिं. पुं.) टीला, ऊँची भूमि, पान

की खेती की ढालुआ भूमि जो चारों

ओर लताओं से ढपी रहती है ।

भीड़—(हिं. स्त्री.) बहुत-से मनुष्यों का

जमाव, जमघट, जनसमूह, संकट, आपत्ति;

(क्रि. प्र.) -छटना—जनसमूह का तितर-

वितर होना; -भड़क्का—(पुं.) बहुत-से

मनुष्यों का समूह; -भाड़—(स्त्री.) जमघट ।

भीड़ना—(हिं. क्रि. स.) मलना, मिलाना ।

भीड़ा—(हिं. वि.) संकुचित, संकरा, तंग ।

भीड़ी—(हिं. स्त्री.) मिडी, रामतरोई ।

भीत—(सं. स्त्री.) भीति, भय, डर; (वि.)

भयग्रस्त, डरा हुआ; (हिं. स्त्री.) दीवार,

भित्तिका, कमरे में विभाग करने का

परदा, चटाई, खण्ड, टुकड़ा, स्थान, छिद्र,

दरार, त्रुटि, अवसर; (मुहा.) -के बिना

चित्र बनाना—बे-सिर-पर की बातें

करना; -में दौड़ना—असंभव काम करने

का प्रयत्न करना ।

भीतर—(हिं. अव्य.) अंदर, मध्य में; (पुं.)

अन्तःकरण, हृदय, अन्तःपुर ।

भीतरा—(हिं. वि.) अन्तःपुर में काम

करने वाला मनुष्य ।

भीतरिया—(हिं. पुं.) वल्लभ संप्रदाय के

वे पुरोहित या पुजारी जो मन्दिर

के भीतर मूर्ति के पास रहते हैं ।

भीतरी—(हिं. वि.) आंतरिक, भीतर का;

-टांग—(पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।

भीति—(सं. स्त्री.) भय, डर; -कर—(वि.)

भयंकर, डरावना; -कारी—(वि.) डरावना ।

भीती—(सं. स्त्री.) कार्तिकेय की एक मातृका

का नाम; (हिं. स्त्री.) भीत, डर ।

भीन—(हिं. पुं.) प्रातःकाल, सबेरा ।

भीनना—(हिं. क्रि. अ.) समा जाना, भर जाना ।

भीनी—(हिं. वि.) मीठी ।

भीम—(सं. वि.) भीषण, घोर, भयंकर;

(पुं.) शिव, महादेव, विष्णु, महादेव की

आठ मूर्तियों में से भीमरूप मूर्ति, भयानक

रस, एक गन्धर्व का नाम, एक राक्षस

का नाम, विशालकाय और बलवान

मनुष्य, अठारह अक्षरों का एक मन्त्र,

पाँचों पाण्डवों में से एक जो वायु के पुत्र

माने जाते थे, वृकोदर, विदर्भ के प्राचीन

राजा का नाम, कुम्भकर्ण का एक पुत्र

जो रावण का सेनापति था; -बंडी-

(स्त्री.) एक देवी का नाम; -ता-

(स्त्री.) भयंकरता; -तिथि—(स्त्री.)

माघ सुदी एकादशी; -नाद—(पुं.)

सिंह, भयंकर शब्द; -पलाशी—(स्त्री.)

सम्पूर्ण जाति की एक संकर रागिनी;

-बल—(पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का

नाम; -मुख—(वि.) डरावने मुख-

वाला; (पुं.) एक प्रकार का बाण;

-रथ—(पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का

नाम, सत्यमामा के गर्भ से उत्पन्न श्री-

कृष्ण के एक पुत्र का नाम; -राज-

(हिं. पुं.) काले रंग की एक प्रसिद्ध

चिड़िया, भृंगराज; -रात्रि—(स्त्री.)

भयंकर रात; -विक्रम—(पुं.) धृत-

राष्ट्र के एक पुत्र का नाम; -शासन-

(पुं.) कठोर शासन; -सेन—(पुं.) मध्यम

पाण्डव, भीम; -सेनी—(हिं. पुं., वि.) एक

प्रकार का कपूर, भीमसेन-संबंधी;

-० एकादशी—(स्त्री.) ज्येष्ठ शुक्ला एका-

दशी, निर्जला एकादशी, माघ शुक्ला

एकादशी; -० फपूर—(पुं.) एक प्रकार

का उत्तम कपूर, वरास; -हास—(पुं.)

इन्द्रतूल, गुडडी की डोरी ।

भीमा—(सं. स्त्री.) रोचना नामक गन्ध-

द्रव्य, चाबुक, दुर्गा देवी ।

भीमोत्तर—(सं. पुं.) कुष्माण्ड, कुम्हड़ा ।

भीमोदरी—(सं. स्त्री.) उमा, दुर्गा का एक

नाम ।

भीम्रायली—(हिं. पुं.) घोड़ों की एक जाति ।

भीर—(सं. पुं.) देखें 'आभीर', अहीर;

(हि. स्त्री.) देखें 'भीड़', संकट; विपत्ति, दुःख; (वि.) भयभीत, डरा हुआ।
भीरना—(हि. क्रि.अ.) भयभीत होना, डरना।
भीरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष।
भीरी—(हि. स्त्री.) अरहर की दाल।
भीरु—(सं. वि.) भयभीत, डरपोक, कायर; (पुं.) सियार, बेले का फूल, ईख की एक जाति।
भीरुक—(सं. पुं.) वन, जंगल, उल्लू, चाँदी।
भीरुता—(सं. स्त्री.), -त्व—(सं. पुं.) कायरता, भय, डर।
भीरुताई—(हि. स्त्री.) भीरुता।
भीरुहृदय—(सं. पुं.) हिरन।
भीरे—(हि. अव्य.) समीप, पास।
भील—(हि. पुं.) एक प्रसिद्ध जंगली जाति; (स्त्री.) ताल की सूखी मिट्टी जो पपड़ी के समान हो जाती है; -भूषण—(पुं.) गुंजा, घुँघची।
भीष—(हि. स्त्री.) देखें 'भिक्षा', भीख।
भीषक—(सं. वि.) डरावता, भयंकर।
भीषज—(सं. पुं.) भिषक, वैद्य।
भीषण—(सं. पुं.) साहित्य में भयानक रस, कुँदरु; कवूतर, शिव, ब्रह्मा; (वि.) भयानक, डरावना, जो बहुत उग्र या दुष्ट हो; -क—(वि.) डरावना; -ता—(स्त्री.) डरावतापन, भयंकरता।
भीषणी—(सं. स्त्री.) सीता की एक सखी का नाम।
भीषण—(हि. वि.) देखें 'भीषण', भयंकर।
भीष्म—(हि. पुं.) देखें 'भीष्म'।
भीष्म—(सं. वि.) भयानक, भयंकर; (पुं.) शिव, महादेव, राक्षस, साहित्य में भयानक रस, शान्तानु राजा के पुत्र, गांगेय; -क (पुं.) विदर्भ देश के राजा जो श्रीकृष्ण की महिषी रुक्मिणी के पिता थे; -संधक—(पुं.) माघवीलता; -संचक—(पुं.) कालिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक की पाँच तिथियाँ; -पितामह—(पुं.) देखें 'भीष्म'; -सू—(स्त्री.) गंगा।
भीष्माष्टमी—(सं. स्त्री.) माघ शुक्ला अष्टमी, (इसी दिन भीष्म ने प्राण-त्याग किया था।)
भीसम—(हि. पुं.) देखें 'भीष्म'।
भुइ—(हि. स्त्री.) भूमि, पृथ्वी।
भुइघरा—(हि. पुं.) देखें 'भुइहरा'।
भुइफोर—(हि. पुं.) वर्षा ऋतु में तालाबों के आसपास मिलनेवाली एक प्रकार की खुमी।
भुइहरा—(हि. पुं.) भूमि खोदकर बनाया हुआ कमरा, तहखाना।

भुंगाल—(हि. पुं.) तुरही, भोंप।
भुंजन—(हि. पुं.) देखें 'भोजन'।
भुंजना—(हि. क्रि.अ.) भुना जाना, झुलसना।
भुंजना—(हि. क्रि. स.) भूना।
भुङ्गली—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कीड़ा; पिल्लू।
भुंड़ा—(हि. वि.) विना सींग का।
भुअंग, भुअंगम—(हि. पुं.) देखें 'भुजंग', सर्प, साँप।
भुअ—(हि. स्त्री.) भू, भौह।
भुअन—(हि. पुं.) देखें 'भुवन'।
भुआर, भुआल—(हि. पुं.) भूषाल, राजा।
भुई—(हि. स्त्री.) भूमि, पृथ्वी; -आँवला—(पुं.) एक प्रकार की घास जो ओषधों में प्रयुक्त होती है; -कंप-डोल—(पुं.) भूकंप, भूचाल; -घरा—(पुं.) समतल भूमि पर आवों लगाने की एक विधि, तहखाना; -नास—(पुं.) किसी वस्तु के एक किनारे को भूमि में इस प्रकार गाड़ना कि उसका कुछ अंश भूमि के भीतर गड़ जाय; एक प्रकार का छोटा पौधा; -हार—(पुं.) देखें 'भूमिहार'।
भुई—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कीड़ा, पिल्लू।
भुक—(हि. पुं.) भोजन, खाद्य पदार्थ, आहार।
भुकड़ी—(हि. स्त्री.) सड़े हुए पदार्थ पर पड़नेवाली पपड़ी, फफूँदी।
भुकराय—(हि. स्त्री.) सड़ने की दुर्गन्ध।
भुकाना—(हि. क्रि. स.) बकाना।
भुक्खड़—(हि. वि.) जिसको मूख लगी हो; मूखा, कंगाल, दरिद्र, वह जो बहुत खाता हो, पेटू।
भुक्त—(सं. वि.) भक्षित, जो खाया गया हो; उपभुक्त, भोग हुआ, जिसका भोग हो चुका हो; -शेष—(पुं.) उच्छिष्ट, जूठा।
भुक्ति—(सं. स्त्री.) भोजन, आहार, लौकिक सुख, ग्रहों का किसी रसिक में एक-एक करके जाना, अधिकार; -प्रद—(वि.) भोग या भोजन देनेवाला।
भुखमरा—(हि. वि.) वह जो भूखों मरता हो, भुखड़, जो खाने के लिये मरा जाता हो, पेटू।
भुखाना—(हि. क्रि.अ.) भूख से पीड़ित होना।
भुखाल—(हि. वि.) जिसको भूख लगी हो, भूखा।
भुगत—(हि. स्त्री.) देखें 'भुक्ति'।
भुगतना—(हि. क्रि.अ., स.) भोगना, सहना, वीतना, चुकाना, निवटाना, दूर होना।
भुगतान—(हि. पुं.) निवटारा, मूल्य, धा:

देन का चुकाना, देना।
भुगताना—(हि. क्रि. स.) संपादन करना, पूरा करना, बिताना, लगाना, चुकता करना, दुःख सहने के लिये वाध्य करना, दूसरे को। भुगतने के अर्थ में वाध्य करना, भोग कराना।
भुगुति—(हि. स्त्री.) देखें 'भुक्ति'।
भुग्न—(सं. वि.) विक, टेढ़ा, रोगी।
भुच्च, भुच्चड़—(हि. वि.) मूख।
भुजंग—(सं. पुं.) सर्प, स्त्री का योर, सीकाना नामक घातु; -प्रयात—(पुं.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में कादर अक्षर होते हैं; -भोजी—(पुं.) गरुड़, मयूर, मोर; -स—(पुं.) सर्प, साँप; -लता—(स्त्री.) नागवल्ली, पात; -विजृम्भित—(पुं.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में छव्वीस वर्ण होते हैं; -संगता—(स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में नौ वर्ण होते हैं।
भुजंगा—(हि. पुं.) काले रंग का मयूर; स्वर में बोलनेवाला एक प्रसिद्ध पक्षी।
भुजंगांतक—(सं. पुं.) मोर, गिद्ध।
भुजंगिनी—(सं. स्त्री.) गोपाल नामक छन्द का दूसरा नाम, सर्पिणी, नागिनी।
भुजंगी—(सं. स्त्री.) सर्पिणी, एक छन्द का नाम जिसके प्रत्येक चरण में मयारह वर्ण होते हैं।
भुजंगरित—(सं. पुं.) एक छन्द का नाम।
भुजंगेश—(सं. पुं.) वासुकि, शेषनाग।
भुज—(सं. पुं.) भुजा, बाहु, ब्रौह्म-कांड, हाथ, दो की संख्या, भोजन, छाया का प्रसूत, (लपेटना) -पूरक, कोण, किसी क्षेत्र के किनारे की रेखा; प्रान्त, किनारा, शाखा, डाली -त्रिसुज का आधार, त्रिकोटर (पुं.) त्रिक, काँख; -ग—(पुं.) साँप, आश्लेषानक्षत्र; -दारण—(पुं.) गरुड़; -निस्तृता—(स्त्री.) एक दण्डिक (वृत्त को) नाम; -पति—(पुं.) वासुकि, अमरनाथ।
शिशुभुता—(स्त्री.) एक वर्णवृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में नौ अक्षर होते हैं; -दंड—(पुं.) बाहुदण्ड; -दल—(पुं.) हस्त, हथेली; -पश—(पुं.) उल्ले में हाथ; डालना, गलवाही; -प्रतिभुज—(पुं.) आयत आदि क्षेत्रों की समानांतर; यह आमने-सामने की भुजाएँ; -खंड—(पुं.) बाँह में पहिने का एक वासुपण, वाजुदंड; -खंड—(पुं.) वाजुदंड, अंगद; -वल—(पुं.) बाहुवल, पराक्रम, पौरुष;

(हि. पुं.) शालिहोत्र के अनुसार एक मीरी जो घोड़े के अगले पैर के ऊपर होती है; -मूल-(पुं.) बाहु-मूल, काँख, मोड़ा ।

भुजगाशन-(सं. पुं.) गरुड़ ।

भुजगी-(सं. स्त्री.) सर्पिणी, नागिन ।

भुजगेंद्र-(सं. पुं.) सर्पराज, वासुकि ।

भुजगेश-(सं. पुं.) सर्पों का राजा, शेषनाग, वासुकि ।

भुजवा-(हि. पुं.) भड़भूँजा ।

भुजांतर-(सं. पुं.) कौड़, गोद ।

भुजा-(सं. स्त्री.) बाँह, हाथ; (मुहा.) -उठाना-प्रतिज्ञा करना ।

भुजागम-(सं. पुं.) वृक्ष, पेड़ ।

भुजाप्र-(सं. पुं.) कर, हाथ ।

भुजाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'भुनाना' ।

भुजामध्य-(सं. पुं.) बाहु का मध्य-भाग, केहुनी ।

भुजामूल-(सं. पुं.) काँख ।

भुजाली-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की टेढ़ी बड़ी छुरी, खुखरी, छोटी बरछी ।

भुजिया-(हि. पुं.) सूखी मूनी हुई तरकारी, उवाले हुए धान का चोबल ।

भुजिष्या-(सं. स्त्री.) गणिका, बेव्रया, दासी ।

भुजल-(हि. पुं.) भुजंगा नामक पक्षी ।

भुजौना-(हि. पुं.) भाड़ में भुना हुआ अन्न, चवैना, भुनने या भुनाने का शुक ।

भुट्टा-(हि. पुं.) जुआर या वाजरे की बाल, मक्के की हरी बाल ।

भुठार-(हि. पुं.) मरुभूमि प्रदेश में पाया जानेवाला घोड़ा ।

भुठौर-(हि. पुं.) घोड़े की एक जाति ।

भुड़ली-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का फूल ।

भुड़ारी-(हि. पुं.) बाल के डंठल के साथ लगा हुआ अन्न का दाना ।

भुन-(हि. पुं.) अव्यक्त गुंजार का शब्द, मक्खी आदि का शब्द ।

भुनगा-(हि. पुं.) उड़नेवाला एक छोटा कीड़ा, फलिया, अति दुर्बल मनुष्य ।

भुनगी-(हि. स्त्री.) ईख के पौधे की हानि पहुँचानेवाला एक छोटा कीड़ा ।

भुनना-(हि. क्रि. स.) भूना जाना, आग की गरमी से पककर लाल होना, (नोट, रुपये आदि का) छोटी मुद्राओं में बदला जाना ।

भनभुनाना-(हि. क्रि. अ.) भुनभुन शब्द करना, मन ही मन कुढ़कर धीरे-धीरे कुछ बढ़वढ़ाना ।

भुनाना-(हि. क्रि. स.) भुनने का काम कराना, (नोट, रुपये आदि को) छोटी

मुद्राओं में बदलना ।

भुनुगा-(हि. पुं.) देखें 'भुनगा' ।

भुरकना-(हि. क्रि. अ.) सूखकर भुरभुरा हो जाना, भूलना, चूर्ण या बुकनी को किसी पदार्थ के ऊपर छिड़कना, भुर-भुराना ।

भुरका-(हि. पुं.) बुकनी, अवीर, मिट्टी की दावात, बोरका ।

भुरकाना-(हि. क्रि. स.) भुरभुरा करना, छिड़कना, भुलावा देना, बहकाना ।

भुरकी-(हि. स्त्री.) अन्न रखने का छोटा कुठिला, छोटा कुल्हड़, पानी का छोटा गड्ढा ।

भुरकुटा-(हि. पुं.) छोटा कीड़ा-मकोड़ा ।

भुरकुन-(हि. पुं.) चूर्ण, चूरा ।

भुरक(कु)स-(हि. पुं.) चूर्ण, चूरा; (मुहा.) -निफलना-हड्डी-पसली का चूरचूर होना, बहुत पीटा जाना ।

भुरत-(हि. पुं.) एक प्रकार की बरसाती घास ।

भुरता-(हि. पुं.) दबकर या कुचला जाकर विकृत पदार्थ, चोखा या भरता नाम का सालन ।

भुरभूर-(हि. स्त्री.) ऊसर या रेतीली भूमि में होनेवाली एक प्रकार की घास ।

भुरभुरा-(हि. वि.) वह जो हलके स्पर्श से चूर-चूर हो जाय ।

भुरभुराना-(हि. क्रि. स.) चूर्ण आदि छिड़कना ।

भुरवना-(हि. क्रि. स.) भ्रम में डालना, भुलवाना, फुसलाना ।

भुरली-(हि. स्त्री.) खेत की उपज को हानि पहुँचानेवाला एक प्रकार का कीड़ा ।

भुराई-(हि. स्त्री.) मोलापन, भूरापन ।

भुराना-(हि. क्रि. अ., स.) भूलना, भुलाना ।

भुलवकड़-(हि. वि.) विस्मरणशील स्वभाव-वाला, जो बात को सर्वदा भूल जाता हो ।

भुलना-(हि. पुं.) भुलवकड़, एक प्रकार की घास ।

भुलभुला-(हि. पुं.) गरम राख ।

भुलवाना-(हि. क्रि. स.) भूलने के लिये प्रेरित करना, भ्रम में डालना, विस्मृत कराना, भुलाना ।

भुलसना-(हि. क्रि. स.) गरम राख में झुलसना ।

भुलाना-(हि. क्रि. अ., स.) भ्रम में डालना, घोखा देना, विस्मृत करना, भूलना, भटकना, भ्रम में पड़ना ।

भुलावा-(हि. पुं.) छल, कपट, घोखा ।

भुवंग-(हि. पुं.) देखें 'भुजंग', सर्प, साँप ।

भुवंगम-(हि. पुं.) सर्प, साँप ।

भुवः-(सं. पुं.) सात लोकों के अन्तर्गत दूसरा लोक जो सूर्य और भूमि के बीच है, अन्तरिक्ष लोक ।

भुव-(सं. पु., स्त्री.) अग्नि, आग, संसार, पृथ्वी ।

भुवन-(सं. पुं.) जगत्, संसार, जल, आकाश, जन, चौदह लोक जो पुराणानुसार-भुः, भुवः, स्वः, महः, जनः तपः और सत्य-ये सात स्वर्गलोक; तथा अतल, सुतल, वितल, गमस्तिमत्, महातल, रसातल और पाताल-य सात पाताल लोक हैं; पार्थिव सृष्टि, एक मुनि का नाम;

-कोश-(पुं.) भूगोल, भूमण्डल; -पति-(पुं.) संसार का स्वामी; -पाल-(पुं.) देखें 'भूपाल'; -पावनी-(वि., स्त्री.) भुवन को पवित्र करनेवाली, गंगा ।

भुवपाल-(हि. पुं.) देखें 'भूपाल' ।

भुवलोक-(सं. पुं.) अन्तरिक्ष लोक ।

भुवा-(हि. पुं.) रुई, घुआ ।

भुवार-(हि. पुं.) देखें 'भुवाल' ।

भुवाल-(हि. पुं.) राजा ।

भुवि-(हि. स्त्री.) पृथ्वी, भूमि ।

भुशुंडि(डी)-(सं. पुं.) काकभुशुण्डी, (इनके विषय में यह प्रसिद्धि है कि वह अमर और त्रिकालज्ञ हैं); एक अस्त्र का नाम ।

भुस-(हि. पुं.) भूसा ।

भूसी-(हि. स्त्री.) देखें 'भूसी' ।

भूसौरा-(हि. पुं.) मसा रखने का स्थान ।

भूकना-(हि. क्रि. अ.) कुत्ते का भों-भों करना, व्यर्थ बकबक करना; (पुं.) कुत्ते का शब्द ।

भूख, भूखा-(हि. स्त्री., वि.) देखें 'भूख, भूखा' ।

भूचाल-(हि. पुं.) भूकंप ।

भूजना-(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु को आग में डालकर अथवा कड़ाही आदि में सूखा पकाना, तलना, कष्ट देना, सताना ।

भूजा-(हि. पुं.) भूना हुआ अन्न, चवैना, भड़भूँजा ।

भूंडरी-(हि. स्त्री.) विना लगान की भूमि जो नाऊ, घारी आदि को दी गई हो ।

भूँडिया-(हि. वि.) मँगनी के हलवैलों से खेती करनेवाला ।

भूँडोल-(हि. पुं.) देखें 'भूकंप' ।

भूँरी-(हि. पुं.) भ्रमर, मीरा ।

भू-(सं. स्त्री.) पृथ्वी, भूमि, स्थान, सीता की एक सखी का नाम; (हि. स्त्री.) माँह; (वि.) (समस्त पदों में) उत्पन्न

होनेवाला; जैसे-स्वयंभू, मनोभू आदि।
भूआ-(हि.पुं.) रूई, इसके समान कोई हल-
 की तथा कोमल वस्तु, धूआ; (स्त्री.) वूआ।
भूकंद-(सं.पुं.) सूत, ओल।
भूकंप-(सं.पुं.) कुछ प्राकृतिक कारणों से
 पृथ्वी के ऊपरी भाग या तल का एका-
 एक हिल उठना, भूचाल, भूडोल।
भूक-(हि. स्त्री.) देखें 'भूख'।
भूकदंबा-(सं. स्त्री.) गोरखमुन्डी।
भूकर्ण-(सं.पुं.) ज्योतिषशास्त्र में निरक्ष-
 मण्डल (पृथ्वी) का व्यासार्ध।
भूकेश-(सं.पुं.) सिवार, वरगद की
 जटाएँ जो भूमि पर लटकती हैं।
भूकेशा-(सं. स्त्री.) राक्षसी।
भूख-(हि. स्त्री.) शरीर की वह स्वतःक्रिया
 जिसमें भोजन की इच्छा हो, क्षुधा,
 अभिलाषा, कामना, आवश्यकता।
भूखन-(हि.पुं.) देखें 'भूषण'।
भूखना-(हि. क्रि. स.) सजाना।
भूखर-(हि. स्त्री.) क्षुधा, भूख, इच्छा।
भूख्वा-(हि. वि.) क्षुधित, जिसको भोजन
 की प्रवृत्ति इच्छा हो, दरिद्र, जिसके पास
 खाने तक को न हो, इच्छुक।
भूगर-(सं.पुं.) विष, गरल।
भूगर्भ-(सं.पुं.) विष्णु, पृथ्वी का भीतरी
 भाग; -गृह-(पुं.) भूमि के भीतर का
 घर; -शास्त्र-(पुं.) वह शास्त्र जिसके
 द्वारा यह ज्ञान प्राप्त होता है कि
 पृथ्वी का संघटन किस प्रकार हुआ,
 उसका ऊपरी तल तथा मध्य का
 भाग किन-किन तत्वों से बना है, उसका
 आदि रूप क्या था तथा किन कारणों
 से इसको वर्तमान रूप प्राप्त हुआ है।
भूगोल-(सं.पुं.) भुवन, भूमण्डल, वह
 शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी
 भाग का स्वरूप, उसके प्राकृतिक
 विभाग आदि विषयों का ज्ञान होता है;
 -विद्या-(स्त्री.) वह विद्या जिसके द्वारा
 पृथ्वी की आकृति, गर्भ, विभाग, गति,
 मौसम आदि जाना जाता है।
भूधन-(सं.पुं.) प्राणियों का शरीर।
भूधर-(सं.पुं.) पृथ्वी की परिधि, विपुवत्
 रेखा, अयन-वृत्त, क्रान्ति-वृत्त।
भूधनक-(सं.पुं.) मूंगफली, चिनियावादाम।
भूधर-(सं.पुं.) भूमि पर रहनेवाला
 प्राणी, शिव, महादेव, दीमक, एक प्रकार
 की तान्त्रिक सिद्धि।
भूधरी-(सं. स्त्री.) योग-शास्त्र के अनु-
 सार समाधि की एक क्रिया या मुद्रा,
 (इसका निवेश नाक में होता है और

इसके द्वारा प्राण और अपान-दोनों वायु
 एकत्र हो जाते हैं।)
भूचाल-(हि.पुं.) भूकंप, भूडोल।
भूचित्र-(सं.पुं.) पृथ्वी का मानचित्र।
भूजात-(हि.पुं.) वृक्ष।
भूटान-(हि.पुं.) एक स्वाधीन पहाड़ी
 राजतंत्र राज्य जो नेपाल के पूरव में है।
भूटानी-(हि.वि.) भूटान-सम्बन्धी, भूटान
 देश का; (पुं.) भूटान देशका निवासी;
 (स्त्री.) भूटान देश की भाषा।
भटिया वादाम-(हि.पुं.) एक मझोले
 आकार का पहाड़ी वृक्ष जिसकी लकड़ी
 पुष्ट होती और इसका फल खाया
 जाता है।
भूड-(हि. स्त्री.) बालू मिली हुई मिट्टी,
 कुएँ का सोता।
भूडोल-(हि.पुं.) भूकंप।
भूत-(सं.पुं.) वेदांत के अनुसार वे मूल तत्त्व
 (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश)
 जिनकी सहायता से सम्पूर्ण सृष्टि की
 रचना हुई है, मृत शरीर, शव, तत्त्व,
 सत्य, कुमार कार्तिकेय, लोच, कृष्ण-पक्ष,
 व्याकरण में क्रिया का वह रूप
 जो यह सूचित करता है कि क्रिया का
 व्यापार समाप्त हो चुका, वे कल्पित
 आत्माएँ जिनके विषय में यह माना
 जाता है कि वे अनेक प्रकार के उपद्रव
 करती और कष्ट पहुँचाती हैं, पिशाच,
 वसुदेव के सब से बड़े पुत्र का नाम,
 जगत्, कल्याण, देवयोनि विशेष, अतीत
 काल, प्राणी, जन्तु, सृष्टि का कोई
 जड़ या चेतन, चर अथवा अचर पदार्थ
 या प्राणी; (वि.) युक्त, मिला हुआ,
 बीता हुआ, सदृश, समान, जो ही
 चुका हो; (मुहा.) - का पकवान-
 भ्रम में डालनेवाली असत्य वस्तु;
 -चढ़ना या सवार होना-अधिक क्रोध
 होना, बहुत दुराग्रह करना; -कर्ता-
 (पुं.) ब्रह्मा; -कला-(स्त्री.) पंच-भूतों
 को उत्पन्न करनेवाली एक शक्ति;
 -काल-(पुं.) अतीत काल, बीता हुआ
 समय; -कालिक-(वि.) अतीत काल-
 संबंधी; -कृत-(पुं.) देवता, विष्णु;
 -खाना-(हि.पुं.) बहुत मैला-कुचैला
 तथा अंधेरा घर; -धन-(वि.) भूत
 का नाश करनेवाला -चारी-(पुं.)
 शिव, महादेव; -जटा-(पुं.) जटा-
 मासी; -तत्त्व-(पुं.) पंचभूत का नाव
 या धर्म; -धारी-(स्त्री.) पृथ्वी;
 -नाथ-(पुं.) शिव, महादेव; -पल-

(पुं.) कृष्ण पक्ष; -पति-(पुं.) कृष्ण,
 शिव, महादेव; -पाल-(पुं.) विष्णु;
 -पूर्णमा-(स्त्री.) आश्विन मास की
 पूर्णिमा; -पूर्व-(वि.) वर्तमान काल
 के पहले का, इस समय से पहले का;
 -भर्ता-(पुं.) भूतपति, शिव, महादेव;
 -भव्य-(पुं.) विष्णु; -भावन-(पुं.)
 विष्णु, महादेव, भूतों के स्रष्टा;
 -भाषा-(स्त्री.) पैशाचिक भाषा;
 -भूत-(पुं.) विष्णु; -भैरव-(पुं.)
 भैरव की एक मूर्ति का नाम; -महेश्वर-
 (पुं.) विष्णु; -यज्ञ-(पुं.) गृहस्थों
 के पंचयज्ञों में से एक, बलिबैश्यदेव,
 भूतबलि; -वत्-(वि.) पूर्ववत्, पहले
 की तरह; -वावी-(वि.) ठीक-ठीक
 बोलनेवाला; -वाहन-(पुं.) शिव का
 एक नाम; -विद्-(वि.) सर्वज्ञ,
 बीती हुई बातों को जाननेवाला;
 -शुद्धि-(स्त्री.) तन्त्र के अनुसार शरीर
 के विभिन्न अंगों की भावना करते हुए
 मंत्र द्वारा उसका शोधन; -संचार-(पुं.)
 भूतोन्माद नामक रोग; -संस्त्व-(पुं.)
 प्रलय; -संसार-(पुं.) जगत्, विश्व,
 ब्रह्माण्ड; -हत्या-(स्त्री.) जीवहत्या।
भूतत्व-(सं.पुं.) भूत का नाव या धर्म,
 पृथ्वी संबंधी विद्या; -विद्या-(स्त्री.) भूगर्भ-
 शास्त्र, वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी के
 भीतर के पदार्थों के विषय में ज्ञान होता है।
भूतल-(सं.पुं.) पृथ्वी, संसार, पृथ्वी
 का ऊपरी तल, धरातल, पृथ्वी के नीचे
 का भाग, पाताल।
भूतांतक-(सं.पुं.) यम, रूद्र।
भूतात्मा-(सं.पुं.) परमेश्वर, जीवात्मा,
 शिव, विष्णु, बुद्ध, देह, शरीर।
भूताधिपति-(सं.पुं.) भूतनाथ, शिव।
भूतायन-(सं.पुं.) परमेश्वर, जीवात्मा।
भूतार्त-(सं.वि.) भूतग्रस्त।
भूतावास-(सं.पुं.) शरीर, विष्णु, संसार।
भूति-(सं.पुं.) शिव; (स्त्री.) अणिमा
 आदि आठ सिद्धियाँ, भस्म, राख, वैभव,
 ऐश्वर्य, सम्पत्ति, सत्ता, उत्पत्ति, लक्ष्मी,
 जाति, बुद्धि, अधिकता; -कर्म-(पुं.)
 गार्हस्थ्य संस्कार; -काम-(वि.) जिसकी
 ऐश्वर्य की कामना हो; -द-(पुं.) शिव;
 -दा-(स्त्री.) गंगा; -निधान-(पुं.)
 धनिष्ठा नद्यंत्र; -वाहन-(पुं.) शिव
 का एक नाम।
भूतिनी-(हि.स्त्री.) उच्च स्त्री ने नृत्योपनि
 प्राप्त की हो, शक्तिनी, शाक्तिनी आदि।
भूतिवानी-(हि.स्त्री.) नरम, रस।

भूतूण—(सं. पुं.) रोहिण घास ।
 भूतेश, भूतेश्वर—(सं. पुं.) परमेश्वर, शिव, महादेव ।
 भूतेष्टा—(सं. स्त्री.) काली, तुलसी, आश्विन कृष्ण चतुर्दशी ।
 भूतेन्माद—(सं. पुं.) भूत-पिशाच के वाधा से होनेवाला उन्माद-रोग ।
 भूतोपदेश—(सं. पुं.) वीथी हुई वात की शिक्षा ।
 भूतम—(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना ।
 भूवार—(सं. पुं.) शूकर, सूअर ।
 भूदेव—(सं. पुं.) ब्राह्मण ।
 भूधन—(सं. पुं.) राजा, नृप ।
 भूधर—(सं. पुं.) शेषनाग, विष्णु, राजा, औषध बनाने का एक प्रकार का वालुका यन्त्र; -ता—(स्त्री.) भूधर का भाव या धर्म ।
 भूधरेश्वर—(सं. पुं.) पर्वतों का राजा हिमालय ।
 भून—(हिं. पुं.) देखें 'भ्रूण' ।
 भूनना—(हिं. क्रि. स.) आग पर रखकर पकाना, गरम घी या तेल में डालकर पकाना, तलना, गरम बालू में डालकर पकाना, अधिक कष्ट देना ।
 भूनता—(सं. पुं.) भूपति, राजा ।
 भूप, भूपति—(सं. पुं.) राजा, नृप, बटुकमैरव ।
 भूपद—(सं. पुं.) वृक्ष, पेड़ ।
 भूपदी—(सं. स्त्री.) मल्लिका, चमेली ।
 भूपरिधि—(सं. स्त्री.) पृथ्वी की परिधि ।
 भूपाल—(सं. पुं.) नृप, राजा ।
 भूपाली—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 भूपुत्र—(सं. पुं.) मंगल ग्रह, नरकासुर ।
 भूपकंप—(सं. पुं.) भूकंप ।
 भूविद्य—(सं. पुं.) पृथ्वी की छाया ।
 भूभल—(हिं. स्त्री.) गरम राख या धूल, गरम रेत ।
 भूमज्ज—(सं. पुं.) नृप, राजा ।
 भूमुरि—(हिं. स्त्री.) देखें 'भूमल' ।
 भूमत्—(सं. पुं.) पर्वत, राजा ।
 भूमंडल—(सं. पुं.) मण्डलाकार भूभाग, पृथ्वी ।
 भूमयी—(सं. स्त्री.) सूर्य-पत्नी, छाया ।
 भूमि—(सं. स्त्री.) वसुधा, पृथ्वी, स्थान, क्षेत्र, आकार, वासस्थान, योग में चित्त की एक अवस्था, प्रदेश, प्रान्त, जड़, नींव; -कंप—(पुं.) भूकंप, भूचाल; -खंड—(पुं.) भूमि का भाग; -गन—(पुं.) उष्ट्र, ऊँट; -गर्त—(पुं.) भूमि में बड़ा विवर, छिद्र, छेद; -गुहा—(स्त्री.) भूमि-गह्वर, सुरंग; -गृह—(पुं.) तहखाना; -चल—(पुं.) भूकम्प, भूडाल; -ज—(वि.) जो भूमि से उत्पन्न

हो; ॥ (पुं.) सुवर्ण, सोना, गुग्गुलु, सीसा, एक अनार्य जाति का नाम; -जा—(स्त्री.) सीता, जानकी; -जीवी—(पुं.) वैश्य, खेतिहर, किसान; -तल—(पुं.) भूतल, संतह; -खंड—(पुं.) एक प्रकार का व्यायाम; -देव—(पुं.) ब्राह्मण, राजा; -धर—(पुं.) पर्वत, पहाड़, काश्तकार; -पति, -पाल—(पुं.) भूपति, राजा; -प्रिशाच—(पुं.) ताड़ का वृक्ष; -पुत्र—(पुं.) मंगल ग्रह, नरकासुर; -पुत्री—(स्त्री.) सीता, जानकी; -भाग—(पुं.) प्रदेश; -भुज्—(पुं.) राजा; भूपति; -भूत्—(पुं.) राजा, पर्वत, पहाड़; -धा—(हिं. पुं.) भूमि का अधिकारी, ग्रामदेवता; -रूह—(पुं.) वृक्ष, पेड़; -लोक—(पुं.) पृथ्वीलोक; -ऊ—(वि.) भूमि पर गिरा हुआ, उत्सन्न; -संभवा—(स्त्री.) सीता, जानकी; -सुत—(पुं.) मंगल ग्रह, नरकासुर, वृक्ष; -सुता—(स्त्री.) सीता, जानकी; -सुर—(पुं.) ब्राह्मण; -हार—(हिं. पुं.) विहार तथा पूरबी उत्तर प्रदेशवासी एक ब्राह्मण जाति ।
 भूमिका—(सं. स्त्री.) रचना, वनावट, अभिनेताओं भेष धारण करना, वेदान्त मत से चित्त की एक अवस्था, वक्तव्य विषय की सूचना, ग्रन्थ का मौलिक परिचय, मुखवचन, प्रस्तावना ।
 भूमिंद्र—(सं. पुं.) भूपति, राजा ।
 भूम्य—(सं. वि.) भूमि पर होने योग्य ।
 भूय—(सं. अव्य.) बहुत, अधिक, फिर से ।
 भूयण—(हिं. स्त्री.) भूमि, पृथ्वी ।
 भूयिष्ठ—(सं. वि.) बहुत, प्रचुर ।
 भूर—(हिं. वि.) बहुत, अधिक; (पुं.) बालू ।
 भूरज्—(हिं. पुं.) भोजपत्र का पेड़; -पत्र—(पुं.) भोजपत्र ।
 भूरपूर—(हिं. अव्य.) देखें 'मरपूर' ।
 भूरला—(हिं. पुं.) वेश्यों की एक जाति ।
 भूरसी दक्षिणा—(हिं. स्त्री.) वह थोड़ी-थोड़ी दक्षिणा जो किसी बड़े यज्ञ, दान अथवा धर्मकृत्य के अन्त में उपस्थित ब्राह्मणों को दी जाती है ।
 भूरा—(हिं. पुं.) धूमिल रंग, यूरोप देश का निवासी, कच्ची चीनी; खाँड़सारी, वह सफेद चीनी जो कच्ची चीनी को स्वच्छ करके बनाई जाती है; (वि.) मिट्टी के रंग का ।
 भूरि—(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र; (वि.) प्रचुर, अधिक, बड़ा, भारी भारी (पुं.)

भूरिगम—(सं. पुं.) गर्दम, गदहा ।
 भूरिज्—(सं. वि.) जो झुंड का झुंड या बहुत-सा उत्पन्न हो ।
 भूरिता—(सं. स्त्री.) प्राचुर्य, अधिकता ।
 भूरितेजा—(सं. वि.) अतिशय तेजस्वी; (पुं.) सुवर्ण, सोना, अग्नि, आग ।
 भूरिद, भूरिद—(सं. वि.) बहुत दान देनेवाला ।
 भूरिधासा—(सं. वि.) अति प्रभावशाली ।
 भूरिवला—(सं. स्त्री.) अतिबला, ककही ।
 भूरूह—(सं. पुं.) वृक्ष, पेड़ ।
 भूरूह—(सं. पुं.) कंचुआ ।
 भूर्जपत्र—(सं. पुं.) भोजपत्र ।
 भूर्णि—(सं. स्त्री.) महभूमि ।
 भूर्लोक—(सं. पुं.) मर्य-लोक ।
 भूल—(हिं. स्त्री.) भूलने का भाव, चूक, दोष, अपराध, अशुद्धि ।
 भूलक—(हिं. वि., पुं.) जो भूल करता हो, भूलनेवाला ।
 भूलता—(सं. स्त्री.) कंचुआ नामक कीड़ा ।
 भूलना—(हिं. क्रि. अ., स.) विस्मरण होना, याद न रहना, धोखे में आना, आसक्त होना, अनुरक्त होना, धमंड करना, खो जाना; (वि.) भूलनेवाला ।
 भूलभुलैया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का बड़ा और चक्कर में डालनेवाला गृह जिसमें एक ही तरह के बहुत से मार्ग और द्वार होने के कारण भीतर जाकर बाहर निकलना कठिन होता है, बहुत घुमाव या फेर की बात या घंटनों, पेचीली बात ।
 भूलोक—(सं. पुं.) पृथ्वीलोक, संसार ।
 भूलोडन—(हिं. वि.) पृथ्वी पर लोटनेवाला ।
 भूललय—(सं. पुं.) भूमि की परिधि ।
 भूल्लभ—(सं. पुं.) राजा ।
 भूवा—(हिं. पुं.) रूई; (वि.) रूई के समान सफेद ।
 भूविद्या—(सं. स्त्री.) वह शास्त्र जिसमें भूमि के तत्त्वों, प्राकृतिक विशेषताओं आदि का विवेचन होता है ।
 भूशंक्र—(सं. पुं.) नृपति, भूपति, राजा ।
 भूशंथा—(सं. स्त्री.) भूमि पर सोना, शयन करने की भूमि ।
 भूशाधी—(सं. वि.) पृथ्वी पर सोनेवाला, पृथ्वी पर गिरा हुआ, मृतक ।
 भूषण—(सं. पुं.) अलंकार, आभरण, गहना, गोमा बढ़ानेवाली घस्तु, विष्णु; -ता—(स्त्री.) शोभा, सजावट ।
 भूषन—(हिं. पुं.) देखें 'भूषण' ।
 भूषना—(हिं. क्रि. स.) अलंकृत करना, सजाना ।

भेषना—(हि. क्रि. अ.) स्वांग बनाना ।
 भेष—(हि.पुं.) वह बनावटी रूप, रंग तथा पहनावा जो वास्तविक रूप को छिपाने के लिये धारण किया जाता है, वेश ।
 भेषज—(हि. स्त्री.) औषध, दवा ।
 भेषना—(हि.क्रि.अ.) वेश धारण करना, वस्त्र आदि पहनना ।
 भैस—(हि. स्त्री.) गाय की जात का परन्तु उससे बड़ा तथा काले रंग का एक चौपाया जिसको लोग दूध के लिये पालते हैं, एक प्रकार की मीठे जल में मिलनेवाली मछली ।
 भैसा—(हि. पुं.) भैस का नर, (पुराण के अनुसार यह यम का वाहन माना जाता है ।)
 भैसाव—(हि.पुं.) भैस और भैसे का जोड़ा खाना ।
 भैसासुर—(हि. पुं.) देखें 'महिपासुर' ।
 भैसोरो—(हि. स्त्री.) भैस का चमड़ा ।
 भै—(हि. पुं.) देखें 'भय', डर ।
 भैक्ष—(सं. पुं.) भिक्षा माँगने की क्रिया या भाव, भिक्षा, भीख; -चर्या—(स्त्री.) भीख माँगन का काम; -जीविका—(स्त्री.) भीख माँगकर जीविका का निर्वाह; -वृत्ति—(स्त्री.) भिक्षा द्वारा जीवनोपाय ।
 भैक्षशाला—(सं. स्त्री.) पुण्य-गृह, वह स्थान जहाँ भिक्षुकों को भिक्षा मिलती हो ।
 भैचक—(हि. वि.) विस्मित, चकित, घबड़ाया हुआ, मौचक ।
 भैजन—(हि. वि.) भय उत्पन्न करनेवाला ।
 भंदा—(हि. वि.) भयप्रद, डरावना ।
 भन—(हि. स्त्री.) भगिनी, वहिन ।
 भना, भनी—(हि.स्त्री.) देखें 'भैन', वहिन ।
 भने—(हि. पुं.) वहिन का पुत्र, भानजा ।
 भैष—(सं. वि.) भीम-सर्वधी; (पुं.) राजा उग्रसेन ।
 भैषी—(सं. स्त्री.) दमयन्ती ।
 भयस—(हि.पुं.) पतक सम्पत्ति में भाइयों का अंश ।
 भैया—(हि. पुं.) भ्राता, भाई, एक संवोधन का शब्द जो बराबरवालों या छोटों के लिये व्यवहार किया जाता है; -चार, -चारा—(हि. पुं.) भ्रातृ-भाव, भाईचारा; -दूज - (स्त्री.) कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाई-दूज, जिस दिन वहिन भाई को टीका लगाती तथा मिठाई खिलाती है ।
 भैत्व—(सं. वि.) भयंकर, डरावना; (पुं.)

शंकर, महादेव, साहित्य में भयानक रस, भयानक शब्द, शिव के गण, एक राग का नाम; -मस्तक—(पुं.) ताल का एक भेद ।
 भैरवी—(सं. स्त्री.) महाविद्या की मूर्ति का एक भेद, चामुण्डा, सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी का नाम, (यह प्रभात के समय गाई जाती है); -चक्र—(पुं.) तान्त्रिकों या वाममार्गियों का वह समूह जो कुछ विशिष्ट तिथियों को भैरवी का पूजन करने के लिये इकट्ठा होता है; -यातना—(स्त्री.) पुराण के अनुसार वह यातना जो प्राणियों को भैरव देते हैं ।
 भैरवेश—(सं. पुं.) शंकर, महादेव ।
 भैरिक्—(सं. पुं.) दुंदुभी वजानेवाला ।
 भैरू—(हि. पुं.) देखें 'भैरव' ।
 भरो—(हि. पुं.) देखें 'भैरव' ।
 भैवाद—(हि. पुं.) भाईचारा ।
 भषज, भैषज्य—(सं. पुं.) औषध ।
 भैहा—(हि. पुं.) डरा हुआ, भयभीत, प्रेत-ग्रस्त ।
 भों—(हि. स्त्री.) भों-भों का शब्द ।
 भोंकना—(हि. क्रि. अ., स.) घसाना, घुसे-डना, सूकना ।
 भोंगरा—(हि. पुं.) एक प्रकार की लता ।
 भोंगाल—(हि. पुं.) बड़ा भोंपा ।
 भोंड़ा—(हि. वि.) कुरूप, भद्दा; (पुं.) जुआर की जाति की एक प्रकार की लंबी घास; -पन—(पुं.) कुरूपता, भद्दापन ।
 भोंड़ी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की भेंड़ जिसके पेट पर के रोयें सफेद होते हैं ।
 भोंतरा—(हि.वि.) जिसकी धार पैनी न हो ।
 भोंदू—(हि. वि.) मूर्ख, भोला, सीधा ।
 भोंपू, भोंपा—(हि. पुं.) तुरही की तरह का मुँह से फूँकर वजाने का वाजा; इंजन, कारखाने आदि में लगा हुआ यंत्र जो ऊँची आवाज पैदा करता है ।
 भोंसले—(पुं.) महाराष्ट्र राजवंश की एक उपाधि ।
 भो—(हि. अव्य.) हे; (क्रि. अ.) हुआ ।
 भोकस—(हि. पुं.) एक प्रकार के राक्षस; (वि.) भुक्खड़ ।
 भोकार—(हि. स्त्री.) जोर से रोने का शब्द ।
 भोक्ता—(सं. वि.) भोजन करनेवाला, सुख-दुःख का भोग करनेवाला, भोगने-वाला; (पुं.) भर्ता, पति ।
 भोग—(सं. पुं.) सुख या दुःख, सुख-दुःख का अनुभव, भोजन, शरीर, मान, पुण्य-पाप का फल, पालन-पोषण, धन, साँप का फन, किराया, भाड़ा, रखेली स्त्री को दिया जानेवाला धन, स्त्री-संभोग,

प्रारब्ध, खाद्य पदार्थ जो देवी-देवता को चढ़ाया जाता है, सूर्य आदि ग्रहों का राशि-स्थिति का काल; -गृह—(पुं.) वासगृह, रहने का घर; -त्व—(पुं.) भोगने का भाव या धर्म; -देह—(पुं.) स्वर्ग या नरक भोगनवाला आत्मा का सूक्ष्म देह; -पति—(पुं.) किसी नगर या प्रान्त का अधिकारी; -पात्र—(पुं.) वह पात्र जिसमें नैवेद्य रखकर देवता को अर्पण किया जाता है; -बंधक—(पुं.) बंधक रखने की वह रीति जिसमें उधार लिये हुए रुपये का सूद नहीं देना होता, परन्तु निर्दिष्ट काल के लिये महाजन को प्रतिभू-सम्पत्ति का भोग करने का अधिकार होता है; -भूमि—(स्त्री.) वह स्थान जहाँ केवल भोग ही होता है, कर्म नहीं होता; -लाभ—(पुं.) सुख, दुःख आदि की प्राप्ति; -लिप्ता—(स्त्री.) व्यसन, लत; -विलास—(पुं.) आमोद-प्रमोद; -स्थान—(पुं.) भोगभूमि, रमण-गृह; -वती—(स्त्री.) नागों की स्त्री, कार्तिकेय की एक मातृका का नाम; -वस्तु—(पुं.) उपभोग्य द्रव्य ।
 भोगना—(हि. क्रि. स.) शुभाशुभ कर्मों के फलों का अथवा सुख-दुःख का अनुभव करना, भुगतना, सहन करना, स्त्री-प्रसंग करना ।
 भोगली—(हि. स्त्री.) छोटी नली, पुपली, नाक में पहनन की नथ, कान में पहनने का एक आभूषण, जरी, वादले आदि का बना हुआ एक प्रकार का सलमा ।
 भोगवाना—(हि. क्रि. स.) भोगने में दूसरे को प्रवृत्त करना, भोग कराना ।
 भोगाना—(हि. क्रि. स.) भोगने में दूसरे को प्रवृत्त करना, भोग कराना ।
 भोगावली—(सं. स्त्री.) स्तुति-गान ।
 भोगिनी—(सं. स्त्री.) राजा की रखेली स्त्री ।
 भोगिभुज—(सं. पुं.) मयूर, मोर ।
 भोगी—(सं. पुं.) सर्प, राजा, नापित, अश्लेषा नक्षत्र, शेषनाग, वह जो भोगता हो; (वि.) इन्द्रियों का सुख चाहनेवाला, विषयासक्त, भुगतनेवाला, सुखी, विषयी, व्यसनी, विलासी, आनन्द लेनेवाला, खानेवाला ।
 भोग्य—(सं. वि.) भोगने योग्य, काम में लाने योग्य, जिसका उपभोग किया जाय; (पुं.) धनवान्य; -त्व—(पुं.) भोगने का धर्म या भाव; -भूमि—(स्त्री.) मर्त्यलोक; -मान—(वि.)

जो अभी भोगा जा रहा हो ।
भोग्या-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
भोज-(सं.पुं.) एक प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा का नाम, श्रीकृष्ण के एक ग्वाल-सखा का नाम, कच्छ के अन्तर्गत एक स्थान जो आजकल भुज कहलाता है; (हिं. पुं.) बहुत से लोगों का एक साथ बैठकर भोजन करना, जेवनार, खाने की वस्तु, परमार १०-११वीं शताब्दी वंशी एक प्रसिद्ध राजा का नाम जो बड़े विद्वान् थे ।
भोजक-(सं. वि., पुं.) भोजन करनेवाला, भोग-विलास करनेवाला, भोगी ।
भोजदेव-(सं. पुं.) भोजराज जो कान्य-कुब्ज देश के राजा थे ।
भोजन-(सं. पुं.) भक्षण, ठोस आहार को दाँतों से कुचलकर निगलना, भोजन की सामग्री; -काल-(पुं.) भोजन करने का समय; -त्याग-(पुं.) भोजन छोड़कर उठ जाना, उपवास; -पात्र-(पुं.) वह पात्र जिसमें भोजन किया जाता है; -वैला-(स्त्री.) खाने का समय; -भट्ट, -व्यय-(पुं.) पेट; -शाला-(स्त्री.) रसोईघर ।
भोजनशाला-(सं. पुं.) पाकशाला, रसोईघर ।
भोजनीय-(सं. वि.) भोजन करने योग्य ।
भोजपत्र-(हिं. पुं.) मझोले आकार का एक वृक्ष जिसकी छाल प्राचीन समय में पुस्तकादि लिखने के काम में आती थी ।
भोज-परीक्षक-(सं. पुं.) रसोई की परीक्षा करनेवाला ।
भोजपुरिया-(हिं. पुं.) भोजपुर का निवासी; (वि.) भोजपुर-संबंधी ।
भोजपुरी-(सं. स्त्री.) राजा भोज की राजधानी, भोजपुर की भाषा; (पुं.) भोजपुर का निवासी; (वि.) भोजपुर-संबंधी ।
भोजबाजी-(हिं. स्त्री.) ऐन्द्रजालिक क्रीड़ा, जादूगरी ।
भोजयितव्य-(सं. वि.) भोजन करने योग्य ।
भोजयिता-(सं. पुं.) भोजन करानेवाला ।
भोजराज-(सं. पुं.) कान्यकुब्ज (कन्नौज) के प्रसिद्ध राजा भोजदेव जो रामभद्र देव के पुत्र थे ।
भोजविद्या-(सं. स्त्री.) ऐन्द्रजालिक विद्या, जादूगरी ।
भोजी-(हिं. वि.) भोजन करनेवाला ।
भोज-(सं. पुं.) भोजन ।
भोजेश-(सं. पुं.) भोजराज, कंस ।
भोज्य-(सं. वि.) भोजन करने योग्य; (पुं.) खाद्य पदार्थ ।

भोट-(हिं. पुं.) भूटान देश, एक प्रकार का बड़ा चौरस पत्थर ।
भोटिया-(हिं. स्त्री.) भूटान देश की भाषा; (वि.) भूटान देश-सम्बन्धी; -बादाम-(पुं.) आलूबुखारा, मूँगफली ।
भोटर, भोटल-(हिं. पुं.) अन्नक, अवरक का चूर, बुक्का, एक प्रकार का गन्वविडाल ।
भोडागार-(हिं. पुं.) भण्डार-घर ।
भोण-(हिं. पुं.) गृह, घर ।
भोथरा-(हिं. वि.) जिसकी धार कुंद हो गई हो ।
भोना-(हिं. क्रि. अ.) लिप्त होना, भीतना, अनुरक्त होना ।
भोपा-(हिं. पुं.) एक प्रकार की तुरही, मोंपा, मूख ।
भोवरा-(हिं. पुं.) एक प्रकार की घास ।
भोभो-(सं. अव्य.) सम्बोधन का शब्द, अरे, हो ।
भोम, भोनी-(हिं. स्त्री.) पृथ्वी ।
भोर-(हिं. पुं.) प्रातःकाल, तड़का, सवेरा, एक प्रकार का बड़ा पक्षी, घोखा, भूल; (वि.) चकित, घबड़ाया हुआ ।
भोराना-(हिं. क्रि. अ., स.) भ्रम म डालना, वहकाना, भ्रम में पड़ना, धोख में आना ।
भोर-(हिं. पुं.) देख 'भोर' ।
भोला-(हिं. वि.) सरल, सीधा-सादा, मूख; -नाथ-(पुं.) शिव, महादेव; -पन-(पुं.) सरलता, सिधार्थ, मूखता; -भाला-(वि.) सरल चित्त का, सीधा-सादा ।
भोलि-(सं. पुं.) उट्ट, ऊँट ।
भोसर-(हिं. वि.) मूख ।
भौं-(हिं. स्त्री.) आँख के ऊपर के वालों की श्रेणी, भौंह ।
भौंकना-(हिं. क्रि. अ.) भौं-भौं शब्द करना, कुत्तों का बोलना, निरर्थक बोलना ।
भौंगर-(हिं. पुं.) क्षत्रियों की एक जाति ।
भौंचाल-(हिं. पुं.) देखें 'भूकंप' ।
भौंडी-(हिं. स्त्री.) छोटा पहाड़, पहाड़ी ।
भौंतुवा-(हिं. पुं.) काले रंग का खटमल के आकार का एक कीड़ा जो वर्षा ऋतु में पानी के ऊपर चक्कर खाता फिरता है, एक प्रकार का रोग जिसमें कोई अंग सूज जाता है, तेली का बैल जो दिन भर कोलहू में जुता रहता है ।
भौर-(हिं. पुं.) भौरा, जल का आवर्त, भँवरकली; -कली-(स्त्री.) भँवरकली ।
भौरा-(हिं. पुं.) काले रंग का उड़ने-वाला एक कीड़ा, बड़ी मधुमक्खी, हिंडोले की लकड़ी, भूमि के नीचे का घर, अन्न रखने का गड्ढा, ज्वार

आदि की उपज को हानि पहुँचानेवाला एक कीड़ा, गडेरिये की मेड़ों की रख-वाली करनेवाला कुत्ता, पशुओं का एक रोग, गाड़ी के पहिये का मध्य भाग, रहट की गोलाकार चरखी, काली या लाल मेड़, लट्टू के आकार का एक खिलौना, प्रेमी, रसिक ।
भौराना-(हिं. क्रि. अ., स.) परिक्रमा कराना, घुमाना, चक्कर काटना, फेरी लगाना, विवाह में माँवर दिलाना, व्याह कराना ।
भौरौ-(हिं. स्त्री.) पशुओं के शरीर पर रोयें का चक्र जिसके स्थान आदि के विचार से उनके गुण-दोष का निर्णय होता है, पानी का चक्कर, जलावर्त, अंगाकड़ी, वाटी, विवाह के समय वर और वधू का अग्नि का परिक्रमा करना ।
भौंह-(हिं. स्त्री.) आँख के ऊपर की हड्डी पर के बाल, सुकुटी, भौं; (मुहा०) -चढ़ाना-त्योरी चढ़ाना; -जोहना-चापलूसी करना ।
भौहरा-(हिं. पुं.) तहखाना ।
भौ-(हिं. पुं.) भव, संसार, जगत्, भय, डर ।
भौका-(हिं. पुं.) बड़ी दौरी, टोकरा ।
भौगिया-(हिं. वि.) संसार के सुखों को भोगनेवाला ।
भौगोलिक-(सं. वि.) भूगोल-संबंधी ।
भौचक (क्का)-(हिं. वि.) स्तम्भित, घबड़ाया हुआ, हक्का-बक्का ।
भौचाल-(हिं. पुं.) देखें 'भूकंप' ।
भौज, भौजाई, भौजी-(हिं. स्त्री.) माई की स्त्री, भावज ।
भौज्य-(सं. पुं.) वह राज्य-प्रबन्ध जिसमें राजा प्रजा से लाम उठाता परन्तु प्रजा के स्वत्वों, सुखों आदि का कुछ विचार न करता हो ।
भौठा-(हिं. पुं.) छोटा पहाड़, टीला ।
भौत-(सं. पुं.) वह बलि जो भोजन के पहले भूतों के उद्देश्य से दी जाती है; (वि.) भूत-सम्बन्धी ।
भौतिक-(सं. वि.) पंचमत्त या सृष्टि-सम्बन्धी, पंच-तत्त्वों से बना हुआ, पार्थिव, शरीर-सम्बन्धी, शरीर का, मृत योनि का; (पुं.) महादेव, शिव, शरीर की इन्द्रियाँ; -विज्ञान, -शास्त्र-(पुं.) वह विज्ञान जिसमें सृष्टि के मूल तत्वों (ताप, ऊर्जा, विद्युत् आदि) का विवेचन हो; -विद्या-(स्त्री.) (भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी आदि को) दुलाने तथा इनसे ग्रस्त मनुष्यों पर से इनको हटाने की विद्या; -सृष्टि-(स्त्री.)

आठ प्रकार की देवयोनियाँ, पाँच प्रकार की तिर्यक योनियाँ तथा मनुष्य योनि-इन तीनों का समुच्चय ।

भौन-(हि. पुं.) देखें 'भवन', घर ।

भौना-(हि. क्रि. अ.) भ्रमण करना, घूमना ।

भौम-(सं. पुं.) मंगल ग्रह, नरकामुर, एक प्रकार का पुच्छल तारा; (वि.) भूमि-संबंधी, भूमि से उत्पन्न; -चार-(पुं.) ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह का संचार; -जल-(पुं.) झरने या कुएँ का जल; -प्रदोष-(पुं.) मंगलवार को पड़नेवाला प्रदोष; -रत्न-(पुं.) प्रवाल, मृंगा; -वार-(पुं.) मंगलवार ।

भौमासुर-(सं. पुं.) नरकासुर नामक दैत्य ।

भौमिक-(सं. वि.) भूमि-संबंधी; (पुं.) भूमिघर, जमींदार ।

भौमी-(सं. स्त्री.) सीता, जानकी ।

भौर-(हि. पुं.) घोड़े का एक भेद, देखें 'भैर', भौरा ।

भौलिया-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की नाव जो ऊपर से ढपी रहती है ।

भौवन-(सं. वि.) भुवन-संबंधी ।

भौसा-(हि. पुं.) जनसमूह, भीड़-साड़ ।

भंगारी-(हि. पुं.) झींगुर ।

भंगी-(हि. पुं.) एक प्रकार का भन-भनानेवाला फर्तिगा ।

भंग, भंस-(सं. पुं.) ध्वंस, नाश, अव:पतन, भटकना; (वि.) भ्रष्ट ।

भंगान-(सं. पुं.) अव:पतन ।

भ्रकुंश-(सं. पुं.) स्त्री-वेग में नाचने-वाला पुरुष ।

भ्रकुटि-(सं. स्त्री.) भ्रूकुटी, भीह ।

भ्रत-(हि. पुं.) दास, सेवक ।

भ्रद-(हि. पुं.) हाथी ।

भ्रम-(सं. पुं.) मिथ्या ज्ञान, भ्रान्ति, धोखा, सन्देह, संशय, मूर्च्छा, भ्रमण, जल धारा का भँवर, कुम्हार का चाक, खरादने का अस्त्र ।

भ्रमकारी-(सं. वि.) भ्रम में डालनेवाला ।

भ्रमण-(सं. पुं.) घूमना-फिरना, यात्रा, मडल, फरी, चक्कर ।

भ्रमणीय-(सं. वि.) घूमने-फिरने योग्य ।

भ्रमत्व-(सं. पुं.) भ्रम, भ्रान्ति, संशय ।

भ्रमना-(हि. क्रि. अ.) धोखा खाना, मूल करना, भटकना, चूकना ।

भ्रममूलक-(सं. वि.) जो भ्रम के कारण उत्पन्न हुआ हो ।

भ्रमर-(सं. पुं.) मधुकर, भौरा;

-रु-(पुं.) मिर के लटकने-वाले बाल; -रुंदक-(पुं.) एक प्रकार

का फर्तिगा जो दीपक को बुझा देता है;

-गीत-(स्त्री.) विरह-काव्य का एक भेद, एक प्रकार का छप्पय; -पद-(पुं.)

एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक पद में वारह अक्षर होते हैं; -मारी-

(स्त्री.) एक सुन्दर सुगन्ध का पौधा;

-विलासिता-(स्त्री.) एक वृत्त जिसके प्रत्येक पाद में ग्यारह अक्षर होते हैं ।

भ्रमरानंद-(सं. पुं.) वकुल, मौलसिरी ।

भ्रमरतली-(सं. स्त्री.) एक वृत्त का नाम जिसको नलिनी या मनहरण भी कहते हैं भौरों की पंक्ति ।

भ्रमरी-(सं. स्त्री.) मिरगी रोग, भौरि की मादा ।

भ्रमवात-(सं. पुं.) ऊर्ध्व आकाश में वह वायुमण्डल जो सर्वदा चक्कर खाता रहता है ।

भ्रमात्मक-(सं. वि.) संदिग्ध, जिसके विषय में भ्रम हो ।

भ्रमाना-(हि. क्रि. अ.) घुमाना-फिराना, बहकाना ।

भ्रमित-(सं. वि.) शंकित, घूमता हुआ ।

भ्रमी-(सं. वि.) चकित, जिसको भ्रम हो, भौचक ।

भ्रष्ट-(सं. वि.) पतित, दूषित, दुराचारी ।

भ्रष्टा-(सं. स्त्री.) दुश्चरित्रा स्त्री, छिनाल औरत ।

भ्रान्त-(सं. वि.) व्याकुल, धवड़ाया हुआ, उन्मत्त, मूला हुआ; (पुं.) तलवार के विविध हाथों में से एक ।

भ्रान्तापह्लाति-(सं. स्त्री.) एक काव्यालंकार जिसमें भ्रम दूर करने के लिये सच्ची वात का वर्णन रहता है ।

भ्रान्ति-(सं. स्त्री.) भ्रम, धोखा, संशय, मोह, प्रमाद, चक्कर, भँवरी, एक प्रकार का काव्यालंकार जिसमें किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ उसकी समानता देखकर भ्रम से एक को दूसरी वस्तु समझ लेना वर्णन किया जाता है ।

भ्रान्तिमत्-(सं. वि.) भ्रान्त, भ्रमयुक्त; (पुं.) वह अर्थालंकार जिसमें एक वस्तु का अन्य वस्तु से ज्ञान होना दिखलाया जाता है ।

भ्रान्तिहर-(सं. वि.) भ्रम का नाश करनेवाला; (पुं.) मन्त्रणा द्वारा भ्रान्ति दूर करनेवाला, मन्त्री ।

भ्राजन-(सं. पुं.) चमक-दमक, दीपन ।

भ्राजना-(हि. क्रि. अ.) शोभायमान होना ।

भ्राता-(सं. पुं.) सगा भाई ।

भ्रातृ-(सं. पुं.) सगा भाई, सहोदर

भ्राता; -त्व-(पुं.) भ्राता का भाव या धर्म; -द्वितीया-(स्त्री.) देखें 'भाई-दूज'; -पुत्र-(पुं.) भाई का पुत्र, भतीजा; -भाव-(पुं.) भाई के समान प्रम या संबंध, भाईचारा, ज्योतिष में लग्न से तृतीय स्थान; -वधू-(स्त्री.) भाई की स्त्री, भौजाई ।

भ्रात्रीय-(सं. वि.) भ्राता-संबंधी ।

भ्राम-(सं. वि.) भ्रमयुक्त, संशययुक्त ।

भ्रामक-(सं. पुं.) शृगाल, सियार, चुंवक पत्थर, कान्ति लोहा; (वि.) भ्रम में डालनेवाला, सन्देह उत्पन्न करनेवाला, धूर्त, चक्कर में डालनेवाला ।

भ्रामर-(सं. पुं.) मधु, शहद, अपस्मार रोग, दोहे का एक भेद; (वि.) भ्रमर-संबंधी ।

भ्रामरी-(सं. स्त्री.) पार्वती का एक नाम ।

भ्राव्य-(सं. पुं.) आयुध, शस्त्र ।

भ्राव्य-(सं. पुं.) आकाश, वह नाँद जिसमें भड़भूँज दाना भूँजते हैं ।

भ्रुकंश-(सं. पुं.) वह मनुष्य जो स्त्री का वेश धारण करके नाचता हो ।

भ्रुकुटि (टी)-(सं. स्त्री.) क्रोध में भीह चढ़ाना, भ्रूकुटी, भीह; -मुख-(पुं.)

एक प्रकार का सर्प ।

भ्रू-(सं. स्त्री.) भीह, भौ ।

भ्रुकुंश-(सं. पुं.) देखें 'भ्रुकुंश' ।

भ्रुकुटी-(सं. स्त्री.) क्रोधादि में भीहों को तिरछी करना ।

भ्रूसप-(सं. पुं.) संकेत जताने के लिये भीहों को तिरछी करना, श्रूविलास ।

भ्रूण-(सं. पुं.) स्त्री का गर्भ, वच्चे के गर्भ में रहने की आदि अवस्था;

-घ्न-भ्रूण-हत्याकारी, गर्भ में रहने हत्या करनेवाला; -हृति,

-हृत्या-(स्त्री.) गर्भस्थ बालक को जान से मार डालना; -हन्-(पुं.) भ्रूण-हत्या करनेवाला ।

भ्रप्रकाश-(सं. पुं.) एक प्रकार का काला रंग जिससे शृंगार आदि के लिये भीहें सँवारेते हैं ।

भ्रभंग, भ्रभेद-(सं. पुं.) क्रोध आदि प्रकट करने में भीह चढ़ाना ।

भ्रभेदी-(सं. वि.) भीह चढ़ाये हुए ।

भ्रविकार-(सं. पुं.) भ्रमंग, भीह चढ़ाना ।

भ्रविक्षेप-(सं. पुं.) भीह चढ़ाकर अप्रसन्नता दिखलाना ।

भ्रविक्षेपित-(सं. पुं.) भ्रविक्षेप, त्योंरी चढ़ाना ।

भ्रविलास-(सं. पुं.) भ्रमंग, त्योंरी चढ़ाना ।

मंडलाकार—(सं. वि.) गोल ।
 मंडलाना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'मंडराना' ।
 मंडलायित—(सं. वि.) वर्तुल, गोलाकार ।
 मंडलित—(सं. वि.) गोलाकार ।
 मंडली—(सं. स्त्री.) गोष्ठी, समूह, मनुष्यों का संघ, जमघट ।
 मंडलीक, मंडलेश, मंडलेश्वर—(सं. पुं.) कई राजाओं का अधिपति ।
 मंडूवा—(हि. पुं.) देखें 'मंडप' ।
 मंडा—(सं. स्त्री.) सुरा, मदिरा; (हि. पुं.) दो विश्वे की नाप की भूमि, एक प्रकार की बंगला मिठाई ।
 मंडार—(हि. पुं.) गड़ड़ा, डलिया, झावा ।
 मंडित—(सं. वि.) भूपित, सजाया हुआ, पूरित, भरा हुआ ।
 मंडियार—(हि. पुं.) झरवेरी नाम की कटौली झाड़ी ।
 मंडी—(हि. स्त्री.) थोक विक्री का स्थान, हाट, दो विश्वे के नाप की भूमि ।
 मंडूआ—(हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा अन्न ।
 मंडूक—(सं. पुं.) भेक, मेढक, प्राचीन काल का एक बाजा, एक प्रकार का नाच, घोड़े की एक जाति, दोहे का एक भेद, रुद्र ताल का एक भेद ।
 मंडकी—(सं. स्त्री.) ब्राह्मी बूटी, निर्लज्ज स्त्री ।
 मंडूर—(सं. पुं.) गलाये हुए लोहे का मैल ।
 मंडा—(हि. पुं.) कलावत्तु बुननेवालों का लकड़ी का एक उपकरण ।
 मंत—(हि. पुं.) देखें 'मंत्र', सलाह ।
 मंतव्य—(सं. पुं.) मत, विचार; (वि.) मानने योग्य ।
 मंत्र—(सं. पुं.) वेद का वह भाग जिसमें मंत्रों का संग्रह है, (यह ब्राह्मण से पृथक् है), मंत्रणा, परामर्श, देवता के आराधन के निमित्त वैदिक वाक्य जिनको पढ़कर यज्ञादि क्रिया की जाती है; -कार—(पुं.) मंत्र रचनेवाले ऋषि; -कृशल—(वि.) मंत्र जाननेवाला; -कृत—(पुं.) परामर्श देनेवाला, मंत्री; -गृह—(पुं.) वह स्थान जहाँ सलाह या मंत्रणा की जाती है; -जल—(पुं.) अभिमन्त्रित किया हुआ जल; -जिह्व—(पुं.) अग्नि; -ज्ञ—(वि.) मंत्र जाननेवाला, सच्ची मंत्रणा देनेवाला; -ण—(पुं.) मन्त्रणा, परामर्श; -णा—(स्त्री.) परामर्श; -र, -दाता—(पुं.) गुरु, मन्त्र देनेवाला गुरु; -मूर्ति—(पुं.) शिव, महादेव; -वादी—(वि.) मंत्र जाननेवाला; -विद्या—(स्त्री.) मंत्र-शास्त्र; -संहिता—(स्त्री.) वैदिक मंत्रों का

संग्रह; -साधन—(पुं.) अभिलषित विषय की सिद्धि; -सिद्धि—(स्त्री.) मंत्र की सफलता ।
 मंत्रिता—(सं. स्त्री.) मंत्री का काम ।
 मंत्रित्व—(सं. पुं.) देखें 'मंत्रिता' ।
 मंत्री—(सं. पुं.) वह अधिकारी जिसके परामर्श से राज्य के काम-काज होते हैं, अमात्य, सचिव, शतरंज की एक गोटी का नाम; -मंडल—(पुं.) मंत्रियों की परिषद् या समूह ।
 मंथ—(सं. पुं.) मथन, मथानी, औषध को खल में मयने की एक विधि, हिलाने की क्रिया, सूर्य की किरण; -क—(वि., पुं.) मथनेवाला; -ज—(पुं.) मक्खन; -न—(पुं.) मथना, सोचकर पता लगाना, बार-बार पढ़ना, मथानी ।
 मंथर—(सं. पुं.) कोष, मथानी, गुप्तचर, क्रोध, वैशाख मास, मक्खन, फल; (वि.) मन्द, भारी, वक्र, टेढ़ा, सुस्त, नीच, अवम ।
 मंथरा—(सं. स्त्री.) कैंकेयी की दासी जिसने राम को वनवास देने के लिये रानी को बहकाया था ।
 मंथा—(सं. स्त्री.) मेथिका, मेथी ।
 मंथान—(सं. पुं.) मंथन-दण्ड, मथानी, शिव, महादेव, एक छन्द का नाम, मैरव का एक भेद ।
 मंथिनी—(सं. स्त्री.) दही मथने का पात्र ।
 मंद—(सं. पुं.) शानि ग्रह, यम, जठरानल, प्रलय, अभाग्य; (वि.) शिथिल, धीमा, आलसी, दुष्ट, खल, मूर्ख; -कर्म—(वि.) कार्यहीन; -कारी—(वि.) हानि करनेवाला; -गति—(वि.) धीमी चाल चलनेवाला; -जात—(वि.) धीरे-धीरे उत्पन्न; -ता—(स्त्री.) आलस्य, धीमापन, क्षीणता; -यी, -बुद्धि—(वि.) अल्पबुद्धि; -भागी—(वि.) हतभाग्य, अभागा; -भाग्य—(वि.) हतभाग्य, अभागा; -भाषिणी—(स्त्री.) मूढ़-भाषिणी; -यती—(स्त्री.) दुर्गा देवी ।
 मंदा—(हि. वि.) मंद, धीमा, शिथिल, नष्ट-भ्रष्ट, विगड़ा हुआ, सस्ता ।
 मंदाकिनी—(सं. स्त्री.) स्वर्ग-गंगा, गंगा की वह प्रधान धारा जो स्वर्ग को चली गई है, संक्रान्ति विशेष, बारह अक्षरों का एक वर्णवृत्त ।
 मंदाक्रान्ता—(सं. स्त्री.) सत्रह अक्षरों के एक वर्णवृत्त का नाम; (वि.) जिस पर किंचित् विजय प्राप्त हुई हो ।
 मंदाक्ष—(सं. पुं.) लज्जा ।
 मंदाग्नि—(सं. पुं.) पाचन मंद होने का रोग ।

मंदान—(हि. पुं.) जहाज का अगला भाग ।
 मंदानिल—(सं. पुं.) मलय, मंद वायु ।
 मंदार—(सं. पुं.) अर्क वृक्ष, हाथी, स्वर्ग, एक विद्याधर का नाम, एक पौराणिक पर्वत, हिरण्यकश्यप के एक पुत्र का नाम; -माला—(स्त्री.) बाईस अक्षरों के एक वर्णवृत्त का नाम; -सप्तमी—(स्त्री.) माघ शुक्ला सप्तमी ।
 मंदारी—(सं. स्त्री.) लाल अकवत ।
 मंदिर—(सं. पुं.) गृह, घर, जिस घर में देवी या देवता का स्थापन किया गया हो, वासस्थान, नगर, समुद्र, एक गन्धर्व का नाम ।
 मंदिरा—(सं. स्त्री.) मँजीरा नामक बाजा ।
 मंदिल—(हि. पुं.) देवालय, घर, वह अल्प भूज जिसको दुकानदार धार्मिक कृत्य के लिये निकाल देता है ।
 मंदी—(हि. स्त्री.) भाव का कम होना, सस्ती ।
 मंदील—(हि. पुं.) एक प्रकार का सिर पर पहनने का आभूषण ।
 मंदुरा—(सं. स्त्री.) घुड़साल, बिछाने की चटाई ।
 मंडुरिक—(सं. पुं.) घोड़े का साईस ।
 मंदोदरी—(सं. स्त्री.) रावण की पटरानी का नाम ।
 मंदोष्ण—(सं. वि.) थोड़ा गरम, गुनगुना ।
 मंद्र—(सं. पुं.) मृदंग, हाथी की एक जाति, संगीत में स्वरों के तीन भेदों में से एक; (वि.) प्रसन्न, सुन्दर, मनोहर, धीमा ।
 मंद्राज—(हि. पुं.) भारतवर्ष के दक्षिण का एक प्रधान नगर तथा देश ।
 मंद्राजी—(वि., पुं.) मंद्राज-संबंधी, मंद्राज में रहनेवाला ।
 मंसना—(हि. क्रि. स.) मन में संकल्प करना, इच्छा करना, मनसना ।
 मंसा, मंशा—(हि. स्त्री.) संकल्प, अभिरुचि, अभिप्राय, इच्छा, आशय ।
 मंसूवा—(हि. पुं.) देखें 'मनसूवा' ।
 मइया—(हि. स्त्री.) माँ, सास ।
 मउर—(हि. पुं.) विवाह के समय दूल्हे के सिर पर पहनाने के लिए फलों का बना हुआ मुकुट या सेहरा, मोर; -छोरई—(स्त्री.) विवाह के बाद मोर छोरन की रीति ।
 मउरी—(हि. स्त्री.) छोटा मोर जो विवाह के समय कन्या के सिर पर बाँधा जाता है ।
 मउलसिरी—(हि. स्त्री.) देखें 'मौलसिरी' ।
 मउसी—(हि. स्त्री.) देखें 'मौसी' ।
 मकई—(हि. स्त्री.) ज्वार नामक अन्न ।
 मकड़ा—(हि. पुं.) बड़ी मकड़ी ।

मकड़ी-(हि. स्त्री.) आठ पैरोंवाला एक प्रसिद्ध कीड़ा, लूता ।
 मकरंद-(सं. पूं.) फूलों का रस जिसको मधुमक्खियाँ, मौरि आदि चूसते हैं, पुष्प-केसर, कुन्द का फूल, एक वृत्त का नाम जिसको माववी या मंजरी भी कहते हैं ।
 मकर-(सं. पूं.) एक प्रकार का जलजन्तु, मगर, मेपादि वारह राशियों में से दसवीं राशि, मछली, माघ महीना, छप्पय का एक भेद; -कुंडल-(पुं.) कान में पहनने का एक प्रकार का गहना; -केतन-(पुं.) कन्दर्प, कामदेव; -तार-(हि.पुं.) बादले का तार; -ध्वज-(पुं.) कन्दर्प, कामदेव, रससिन्दूर, चन्द्रोदय रस; -पति-(पुं.) कामदेव, ग्राह; -ग्रह-(पुं.) एक प्रकार की सैन्य-व्यूह-रचना जिसमें सैनिक मंकर के आकार में खड़े किये जाते हैं; -संक्रांति-(स्त्री.) वह समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, (हिन्दू लोग इसको पुण्य दिन मानते हैं), खिचड़वार; -सप्तमी-(स्त्री.) माघ शुक्ला सप्तमी ।
 मकरांक-(सं. पूं.) कामदेव, समुद्र ।
 मकरा-(हि.पुं.) भरे रंग का एक कीड़ा, मंडुवा नामक अन्न, हलवाई की सेव बनाने की चौबड़िया ।
 मकराकार-(सं. विं.) मगर या मछली के आकार का ।
 मकराकृत-(सं. विं.) देखें 'मकराकार' ।
 मकराक्ष-(सं.पुं.) खर का पुत्र और रावण का भतीजा ।
 मकरानन-(सं.पुं.) शिव के एक अनुचर का नाम ।
 मकराना-(हि. पूं.) राजपूताने का एक प्रदेश जहाँ का संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है ।
 मकरालय, मकरानास-(सं. पूं.) समुद्र ।
 मकरासन-(सं. पूं.) तान्त्रिकों का एक आसन जिसमें हाथ और पैर पीठ की ओर किये जाते हैं ।
 मकरी-(सं. स्त्री.) मगर की मादा, चक्की की वह लकड़ी जो जुए के छेद में रहती है ।
 मकरोड़ा-(हि.पुं.) ज्वार या मक्के का डंठल ।
 मकरीरा-(हि.पुं.) एक प्रकार का छोटा कीड़ा जो प्रायः आम के वृक्षों पर चिपका रहता है ।
 मकई-(हि.स्त्री.) एक प्रकार का गोद ।
 मकाई-(अ.स्त्री.) बड़ी जोधरी, ज्वार ।
 मकान-(हि.पुं.) रहने का घर; -दार-

(पुं.) मकान का मालिक ।
 मकार-(सं.पुं.) म-स्वरूप वर्ण, तन्त्रोक्त पाँच पदार्थ, यथा-मद्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा ।
 मकुंद-(हि. पूं.) देखें 'मुकुंद' ।
 मकु-(हि. अध्य.) कदाचित्, चाहे, वरन्, वल्कि, क्या जाने ।
 मकुआ-(हि.पुं.) वाजरे की उपज का एक रोग ।
 मकुट-(हि.पुं.) देखें 'मुकुट' ।
 मकुना-(हि.पुं.) वह नर हाथी जिसके दाँत बहुत छोटे हैं, बिना मूँछ का मनुष्य ।
 मकुनी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की कचौड़ी जो बेसन या चने की पीठी भरकर बनाई जाती है, उसी प्रकार की वाटी या लिट्टी ।
 मकुर-(सं.पुं.) कुम्हार का डंडा जिससे वह चाक चलाता है, दर्पण, मुकुर, कली, बकुल वृक्ष, मौलसिरी ।
 मकुल-(सं. पूं.) बकुल, मौलसिरी ।
 मकुनी-(हि. स्त्री.) देखें 'मकुनी' ।
 मकेरा-(हि.पुं.) जिस खेत में ज्वार या वाजरा बोया जाता है ।
 मको-(हि. स्त्री.) देखें 'मकोय' ।
 मकोइचा-(हि.विं.) मकोय के रंग का, ललाई लिये पीला ।
 मकोई-(हि. स्त्री.) जंगली मकोय जिसमें काँटे होते हैं ।
 मकोड़ा-(हि. पूं.) कोई छोटा कीड़ा ।
 मकोय-(हि. स्त्री.) एक छोटा पौधा जिसमें छोट गोल फल लगते हैं, इसके दो भेद होते हैं । एक में पीले और सुपारी के बराबर खट-भीठे फल लगते हैं । इसके फल को रसभरी भी कहते हैं । दूसरी जाति में फालसे के बराबर हरे या लाल छोटे फल लगते हैं जो औषधों में प्रयुक्त होते हैं ।)
 मकोरना-(हि.क्रि. स.) देखें 'मरोड़ना' ।
 मकोसल-(हि. पूं.) एक प्रकार का बड़ा सदाबहार वृक्ष जिसकी लकड़ी कड़ी होती है ।
 मकोहा-(हि.पुं.) एक प्रकार का लाल रंग का कीड़ा जो कृषि को बहुत हानि पहुँचाता है ।
 मक्कर-(हि. पूं.) छल, कपट ।
 मक्का-(हि. पूं.) ज्वार, मकई ।
 मक्कूल-(सं. पूं.) शिलाजतु, शिलाजीत ।
 मक्कोल-(सं. पूं.) खटिका, खड़िया ।
 मक्खन-(हि.पुं.) गाय या भैंस के दूध का वह सार भाग जो दूध या दही को मथने से प्राप्त होता है और जिसको

तपाने से घी बनता है; (मुहा.) कलेजे पर मक्खन मला जाना-शत्रु की हानि देखकर प्रसन्न होना ।
 मक्खा-(हि. पूं.) बड़ी जाति की मक्खी, नर मक्खी ।
 मक्खी-(हि. स्त्री.) एक प्रसिद्ध उड़ने-वाला छोटा कीड़ा जिसके छः पैर होते हैं; (यह संसार भर सवत्र पायी जाती है), मक्षिका, मधुमक्खी; (मुहा.) जीती मक्खी निगलना-जान-बूझकर ऐसा काम करना जिससे बाद में पछताना पड़े; -की तरह फक देना-अनावश्यक समझकर हटा देना; -नारना-व्यर्थ कार्य करना; -चूस-(वि.) बहुत अधिक कृपण, भारी कंजूस; -मार-(पुं.) एक प्रकार का जंतु जो मक्खियों को खा जाता है, एक प्रकार की छड़ी; -लेट-(स्त्री.) एक प्रकार की जाली (वस्त्र) जिस पर छोटी-छोटी बूटियाँ बनी रहती हैं ।
 मक्ष-(सं. पूं.) कोब, समूह, ढेर ।
 मक्षिका-(सं.स्त्री.) मक्खी, शहद की मक्खी ।
 मक्सी-(हि. पूं.) काले रंग का घोड़ा ।
 मख-(सं. पूं.) याग, यज्ञ ।
 मखजन-(सं. पूं.) भण्डार, कोष ।
 मखतूल-(हि. पूं.) काला रेशम ।
 मखतूली-(हि.विं.) काले रेशम का बना हुआ ।
 मखद्विप, मखद्वेषी-(सं. पूं.) राक्षस ।
 मखधारी-(हि. पूं.) यज्ञ करनेवाला ।
 मखन-(हि. पूं.) देखें 'मक्खन' ।
 मखना-(हि. पूं.) देखें 'मकुना' ।
 मखनाय-(सं. पूं.) यज्ञ के स्वामी, विष्णु ।
 मखनिघा-(हि. पूं.) मक्खन बनाने या वेचनेवाला; (विं.) दूध या दही) जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया हो ।
 मखमल-(अ. स्त्री.) रोयेंदार मोटा रेशमी कपड़ा ।
 मखमली-(अ. विं.) मखमल-जैसा ।
 मखमित्र-(सं. पूं.) विष्णु ।
 मखराज-(सं. पूं.) यज्ञों में श्रेष्ठ, राज-सूय यज्ञ ।
 मखशाला-(सं. स्त्री.) यज्ञशाला, यज्ञ करने का स्थान ।
 मखस्वामी-(सं.पुं.) यज्ञ के स्वामी, विष्णु ।
 मखाना-(हि. पूं.) देखें 'तालमखाना' ।
 मखान्न-(सं. पूं.) यज्ञीय अन्न ।
 मखालय-(सं. पूं.) यज्ञशाला ।
 मखी-(हि. स्त्री.) देखें 'मक्खी' ।
 मखोना-(हि. पूं.) एक प्रकार का कपड़ा ।
 मखोल-(हि. पूं.) हेंगो, दिल्लीनी ।
 मग-(हि.पुं.) मार्ग, मगव देग, मगह;

(सं. पुं.) एक वर्ण के शाकद्वीपी ब्राह्मण, मगध देश का निवासी ।
 मगजी—(हि. स्त्री.) पतली गोट या पट्टी जो कपड़े के किनारे पर लगाई जाती है ।
 मगण—(सं. पुं.) कविता के आठ गणों में से एक गण जिसमें तीनों वर्ण गुण होते हैं ।
 मगद—(हि. पुं.) एक प्रकार की मिठाई जो मूंग के आटे और घी से बनाई जाती है ।
 मगदर, मगदल—(हि. पुं.) एक प्रकार का लड्डू जो मूंग या उड़द के आटे में घी और चीनी मिलाकर बनाया जाता है ।
 मगदा—(हि. पुं.) मार्ग दिखानेवाला ।
 मगदूर—(हि. पुं.) सामर्थ्य ।
 मगध—(सं. पुं.) दक्षिणी विहार का प्राचीन नाम ।
 मगधीय—(सं. वि.) मगध-देश सम्बन्धी ।
 मगधेश—(सं. पुं.) मगध देश का राजा, जरासन्ध ।
 मगन—(हि. वि.) मगन, डूबा हुआ, प्रसन्न, लीन ।
 मगना—(हि. क्रि. अ.) लीन या तन्मय होना ।
 मगर—(हि. पुं.) इस नाम का एक प्रसिद्ध जलजन्तु, मीन, मछली, कान में पहनने का मछली के आकार का एक गहना ।
 मगरमच्छ—(हि. पुं.) बड़ी मछली, मगर । नामक जलजन्तु ।
 मगरा—(हि. पुं.) नदी का ऐसा किनारा जो जीतने-बोने योग्य हो ।
 मगरोत्तन—(हि. स्त्री.) नस्य, सुंघनी ।
 मगस—(हि. पुं.) ऊख की सीठी, खोई ।
 मगसिर—(हि. पु.) अगहन का महीना ।
 मगह—(हि. पुं.) मगध देश ।
 मगहपति—(हि. पुं.) मगध देश का राजा, जरासन्ध ।
 मगही—(हि. वि.) मगध-सम्बन्धी, मगध देश का, मगह में उत्पन्न; (पुं.) एक प्रकार का पान ।
 मगु—(सं. पुं.) शाकद्वीपी ब्राह्मण, देखें 'मग' ।
 मगज—(अ. पुं.) मस्तिष्क का सेजा, दिमाग, बुद्धि ।
 मगन—(स. वि.) तन्मय, लीन, लिप्त, प्रसन्न, डूबा हुआ, निमज्जित, नशे में चूर; (पुं.) एक पर्वत का नाम ।
 मघ—(सं. पुं.) घन, सम्पत्ति, पुरस्कार ।
 मघई—(हि. वि.) देखें 'मगही' ।
 मघवती—(सं. स्त्री.) इन्द्राणी ।
 मघवा—(सं. पुं.) इन्द्र; -प्ररय—(पुं.) इन्द्रप्रस्थ नाम का नगर; -रिपु—(पुं.) मेघनाद ।
 मघा—(सं. स्त्री.) अश्विनी आदि सत्ताईस

नक्षत्रों में से दसवाँ नक्षत्र, (इरामें पाँच तारे हैं ।)
 मघाना—(हि. पु.) एक प्रकार की बरसाती घास ।
 मघारना—(हि. क्रि. स.) माघ महीने में हल चलाना ।
 मघी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का धान ।
 मघोनी—(सं. स्त्री.) इन्द्राणी ।
 मघोना—(हि. पुं.) नीले रंग का वस्त्र ।
 मचक—(हि. स्त्री.) दवाव, लचक ।
 मचकना—(हि. क्रि. अ.) मच-मच आवाज करना, लचकना ।
 मचकाना—(हि. क्रि. अ.) किसी पदार्थ को इस प्रकार से दवाना कि मचमच शब्द निकले, झटके से किसी पदार्थ को हिलाना
 मचकना—(हि. पुं.) झोंका, धक्का, झूले की पेंग ।
 मचकना—(हि. क्रि. अ.) फैलना, छा जाना, किसी ऐसे कार्य का होना जिसमें हलचल या कोलाहल हो ।
 मचमचाना—(हि. क्रि. अ.) मच-मच शब्दसहित हिलाना, मचकना ।
 मचरंग—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।
 मचल—(हि. स्त्री.) मचलने की क्रिया या भाव ।
 मचलना—(हि. क्रि. अ.) हठ करना, अड़ना ।
 मचला—(हि. वि.) मचलनेवाला, अनजान वननेवाला, जो बोलन के अवसर पर चुप रहे ।
 मचलाना—(हि. क्रि. अ., स.) किसी को मचलने में प्रवृत्त करना, बमन की इच्छा होना, ओकाई आना ।
 मचवा—(हि. पुं.) खाट, पलंग, खटिया या चौकी का पाया ।
 मचान—(हि. स्त्री., पुं.) चार खम्भों पर बाँस का टहुर बाँधकर बनाया हुआ स्थान जिस पर बैठकर लोग शूर आदि का धिकार करते हैं या शिकारी उपज की रखवाली करते हैं, दिया रखने की दीवट ।
 मचाना—(हि. क्रि. स.) ऐसा कार्य आरंभ करना जिसमें कोलाहल हो ।
 मचिया—(हि. स्त्री.) छोटे पायों की एक आदनी के बैठने योग्य छोटी चारपाई ।
 मचिलई, मचली—(हि. स्त्री.) मचलने का भाव या क्रिया ।
 मचैरी—(हि. स्त्री.) बेलों के जुए के नीचे लगी हुई लकड़ी ।
 मचठ—(हि. पुं.) बड़ी मछली, दोहे का एक जेद; -असवारी—(पुं.) मदन, कामदेव; -घातिनी—(स्त्री.) मछली फँसाने की लंबी बंसी ।
 मचठड़, मचठर—(हि. पुं.) एक प्रसिद्ध

छोटा कीड़ा जो वर्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में गरम देशों में पाया जाता है ।
 मच्छरता—(हि. स्त्री.) द्वेष, ईर्ष्या, डाह ।
 मच्छरिया—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की बुलबुल ।
 मच्छी—(हि. स्त्री.) देखें 'मछली';
 -काँटा—(पुं.) एक प्रकार की सिलाई;
 -मार—(पुं.) धीवर, मल्लाह ।
 मच्छोदरी—(हि. स्त्री.) देखें 'मत्स्योदरी' ।
 मछरंझा—(हि. पुं.) एक प्रकार का जल-पक्षी, राम चिड़िया ।
 मछली—(हि. स्त्री.) सदा जल में रहनेवाला एक प्रसिद्ध जीव, मत्स्य, मीन, मछली के आकार का लटकन जो गहनों में लगाया जाता है; -गोता—(पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति या पेंच; -डंड—(पुं.) एक प्रकार का व्यायाम; -दार—(पुं.) दरी की एक प्रकार की बुनावट; -शार—(पुं.) धीवर, मछुवा ।
 मछुआ, मछुवा—(हि. पुं.) मछली मारनेवाला, धीवर, मल्लाह ।
 मछेह—(हि. पुं.) मधुमक्खी का छता ।
 मजदूर—(फा. पुं.) मजूर, कुली ।
 मजदूरी—(फा. स्त्री.) मजदूर का काम, पारिश्रमिक आदि ।
 मजन—(अ. वि.) पागल, वावला; (पुं.) अरबी की प्रसिद्ध प्रेम-कथा लैला-मजनू का नायक ।
 मजदूर—(अ. वि.) विवश, लाचार ।
 मजदूरी—(अ. स्त्री.) (मजदूर होने की स्थिति, विवशता ।
 मजलिस—(अ. स्त्री.) जलसा, सभा ।
 मजलिसी—(अ. वि.) मजलिस-संबंधी ।
 मजहब—(अ. पुं.) धर्म, संप्रदाय ।
 मजहबी—(अ. वि.) मजहब का ।
 मजा—(अ. पुं.) स्वाद, रस, जायका, आनंद, मनोविनोद, तमाशा ।
 मजाक—(अ. पुं.) हँसी, दिल्लगी ।
 मजाकिया—(अ. वि.) मजाक करनेवाला ।
 मजारी—(हि. स्त्री.) मजार, विल्ली ।
 मजिल—(हि. स्त्री.) पड़ाव, स्थान, घर का खंड ।
 मजोठ—(हि. स्त्री.) पहाड़ों में होनेवाली एक प्रकार की लता जिसकी जड़ और डंठल से लाल रंग बनाया जाता है ।
 मजोठी—(हि. वि.) लाल रंग का; (स्त्री.) हुई ओटने की चरखी में लगी हुई बीच की लकड़ी ।
 मजोर—(हि. स्त्री.) केले आदि का घौद ।
 मजोरा—(हि. पुं.) काँसे की बनी हुई

छोटी-छोटी कटोरियों की जोड़ी जिनके बीच में छेद होता है इन छेदों में डोरा पिरोया होता है। संगीत में ताल देने के लिए इन्हें आपस में टकराकर बजाते हैं।
 मजूर, मजुरा—(हि. पुं.) कुली।
 मजूरी—(हि. स्त्री.) मजूर का पारिश्रमिक, काम, पैसा आदि।
 मजेज—(हि. स्त्री.) अहंकार।
 मजेदार—(अ. वि.) मजा से युक्त, आनंद-दायक, स्वादिष्ट।
 मजेदारी—(अ. स्त्री.) मजा, आनन्द, मौज।
 मज्ज—(हि. स्त्री.) देखें 'मज्जा'।
 मज्जन—(सं. पुं.) स्नान, नहाना, मज्जा।
 मज्जना—(हि. क्रि. अ.) नहाना, गोता लगाना।
 मज्जफल—(सं. पुं.) माजूफल।
 मज्जर—(सं. पुं.) एक प्रकार की घास।
 मज्जा—(सं. स्त्री.) अस्थिसार, हड्डी के भीतर का गूदा; -रस—(पुं.) शुक्र, वीर्य; -सार—(पुं.) जायफल।
 मज्जूक—(सं. पुं.) मण्डूक, मेढक।
 मज्ज, मज्ज—(हि. पुं., अव्य.) बीच (में)।
 मझधार—(हि. स्त्री.) नदी की मध्य धारा, बीच-धारा, किसी कार्य का मध्य।
 मझला—(हि. वि.) मध्य का, बीच का।
 मझाना—(हि. क्रि. अ., स.) प्रविष्ट होना या करना, बीच में बँसना या धँसाना, पँटना।
 मझार—(हि. अव्य.) बीच में।
 मझाचना—(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'मझाना'।
 मझिया—(हि. स्त्री.) गाड़ी की पेंदी में लगी हुई लकड़ी।
 मझियाना—(हि. क्रि. रा.) गव्य से होकर आना या निकालना, नाव खेना।
 मझियारा—(हि. वि.) बीच का, मध्य का।
 मझुआ—(हि. पुं.) हाथ में पहिने की एक प्रकार की चूड़ी।
 मझोला—(हि. पुं.) जूते का तल्ला सीने का चमार का एक औजार।
 मझोला—(हि. वि.) मझला, बीच का, मध्यम आकार का, जो न बहुत बड़ा और न बहुत छोटा हो।
 मझोली—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की बैल-गाड़ी, जूता सीने की एक प्रकार की टेकुरी।
 मट—(हि. पुं.) मिट्टी का बड़ा पात्र, मटका।
 मटक—(हि. स्त्री.) मटकने की क्रिया या भाव, नखरे की चाल या गति, हाव-भाव।
 मटकना—(हि. क्रि. अ.) अंगों को हिलाने हुए चलना, लचककर या चौंचला दिखाने हुए चलना, टुकटाकर चलना,

नेत्र, नृकुटी, अँगुली आदि इस प्रकार चलाना जिसमें कुछ लचक या चौंचला दिखाई पड़े।
 मटकनि—(हि. स्त्री.) नृत्य, नाचना, मटक, चौंचला।
 मटका—(हि. पुं.) मिट्टी का बड़ा घड़ा जिसका मुख चौड़ा होता है।
 मटकाना—(हि. क्रि. स.) अंगों को नखरे के साथ हिलाना-डुलाना, या चमकाना, मटकने की क्रिया करना।
 मटकी—(हि. स्त्री.) छोटा मटका, कमोरी, मटकने का भाव, मटक।
 मटकीला—(हि. वि.) मटकनेवाला, चौंचला के साथ अंगों को हिलानेवाला।
 मटकीअल—(हि. स्त्री.) मटकने की क्रिया या भाव, मटक।
 मटना—(हि. पुं.) एक प्रकार का गन्ना।
 मटनगरा—(हि. पुं.) विवाह के पहले की एक रीति जिसमें किसी शुभ दिन घर या बूँ की हलदी उठती और घर की स्त्रियाँ मंगल-गीत गाती हैं।
 मटमैला—(हि. वि.) मिट्टी के रंग का, बूमिल।
 मटर—(हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा अन्न, (इसकी फलियों को छीमी कहते हैं जिसमें दाने होते और खाने में अच्छे लगते हैं)।
 मटरगद्दत—(हि. पुं.) टहलना, इवर-उवर धूमना, सैर-सापाटा।
 मटरगद्दती—(हि. स्त्री.) सैर-सापाटा।
 मटरकोर—(हि. पुं.) मटर के बराबर घुंघरू।
 मटराला—(हि. पुं.) जो में गिला हुआ मटर।
 मटलनी—(हि. स्त्री.) मिट्टी का कच्चा पात्र।
 मटा—(हि. पुं.) एक प्रकार का लाल चीटा जो छत्ता बनाकर आम के पेड़ों पर रहता है।
 मटि (आ)याना—(हि. क्रि. स.) जूठे पात्र को मिट्टी आदि से माँजकर स्वच्छ करना, मिट्टी से ढाँपना, सुनकर अतसुनी करना, महटियाना।
 मटिया—(हि. स्त्री.) मिट्टी, मूत शरीर, शय; (वि.) मिट्टी के समान, मटमैला, एक प्रकार का पत्नी; -सतान, -सेट—(वि.) नाष्ट-श्राट।
 मटियार—(हि. पुं.) वह गेठ जिसमें चिकनी मिट्टी पटी हो।
 मटियाला, मटोरजा—(हि. वि.) मटमैला।
 मटुला—(हि. पुं.) देवों 'मटका'।
 मटुली—(हि. स्त्री.) देवों 'मटकी'।
 मटुक—(सं. पुं.) एक प्रकार की मछली।

मट्टी—(हि. स्त्री.) देवों 'मिट्टी'।
 मट्टर—(हि. वि.) आलसी, मुस्त।
 मट्टा—(हि. पुं.) मथा हुआ बही जिससे भक्तजन निकाल लिया गया हो, तक, छाछ।
 मट्टी—(हि. स्त्री.) मैदे का नमकीन पकवान।
 मठ—(सं. पुं.) रहने का स्थान, निवास-स्थान, छायावास, देवगृह, मन्दिर, वह घर जिसमें एक महन्त की अधीनता में बहुत से साधु रहते हैं।
 मठवारी—(हि. पुं.) मठावीर, साधुओं के मठ का अधिकारी या प्रधान।
 मठर—(सं. पुं.) वह जो मद्य पीकर मत-वाला हुआ हो।
 मठरना—(हि. पुं.) सोनारों या कसेरों की एक प्रकार की छोटी हथौड़ी।
 मठरी (ली)—(हि. स्त्री.) मट्टी।
 मठाधिपति, मठाधीश—(सं. पुं.) मठ का महन्त।
 मठिया—(हि. स्त्री.) फल (घातु) की बनी हुई हाथ की नूँड़ियाँ, छोटी कुटी या मंठा।
 मठी—(हि. स्त्री.) छोटा मठ, मठ का अधिकारी या महन्त।
 मठुली—(हि. स्त्री.) मिट्टी या मठरी नाम का पकवान।
 मठोर—(हि. स्त्री.) दही मथने या मट्टा रगने की मटकी।
 मठोरना—(हि. क्रि. अ.) छोटी हथौड़ी से धीरे-धीरे ठोकना।
 मठोरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का बड़ई का रुन्दा।
 मठई—(हि. स्त्री.) पणशाळा, छोटी कुटी या सोपड़ी।
 मठक—(हि. स्त्री.) गुप्त बात, रहस्य।
 मठमझाना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'मरमराना'।
 मठराना—(हि. क्रि. अ.) मँडराना।
 मठला—(हि. पुं.) अनाज रगने का छोटा कुठला।
 मठुला—(हि. पुं.) देवों 'मंजु'।
 मठुवारी—(हि. पुं.) देवों 'मारवाड़ी'।
 मठुवट—(हि. पुं.) मराठ।
 मठुआ—(हि. पुं.) मिट्टी का बना हुआ छोटा घर, राना तथा चना।
 मठुआ—(हि. पुं.) मोठरी, मठुआ।
 मठुआ—(हि. पुं.) छोटा चना ताग्राव, पोतरी।
 मठुआ—(हि. पुं.) दागरे की पालि का एक मोटा अन्न, एक प्रकार का रसी।
 मठुआ—(हि. स्त्री.) पकवान, कुटी, मिट्टी का बना हुआ छोटा घर, मठई।

मड़ोर—(हि. स्त्री.) देखें 'मरोड़'।
 मड़ोही—(हि. स्त्री.) लोहे की छोटी पंचदार कौटिया।
 मड़—(हि. पुं.) दाँत के ऊपर की मैल; (वि.) अड़कर बैठनेवाला, जो हटान पर भी जल्दी न हटे।
 मड़ना—(हि. क्रि.स.) चित्र आदि पर शीशा जड़ना, पुस्तक पर जिल्द लगाना, घेर, ढोल, मृदंग आदि वाजों के मुँह पर चमड़ा लगाना, बलपूर्वक किसी पर आरोपित करना, किसी के गले लगाना, थोपना।
 मड़वाना—(हि. क्रि. स.) मड़ने का काम दूसरे से कराना।
 मड़ा—(हि.पुं.) मिट्टी का बना हुआ छोटा घर।
 मड़ाई—(हि.स्त्री.) मड़न का काम या शुल्क।
 मड़ाना—(हि. क्रि. स.) मड़ने का काम दूसरे से कराना।
 मड़ो—(हि. स्त्री.) छोटा मठ, छोटा देवालय, छोटा घर, छोटा मण्डप, पर्ण-शाला, शोपड़ी।
 मड़या—(हि. पुं.) मड़नेवाला।
 मणि—(सं.स्त्री.वा.पुं.) बहुमूल्य पत्थर, रत्न, बकरी के गले की थैली, लिंग का अग्रभाग, एक नाग का नाम, मणिबन्ध, सवश्रेष्ठ व्यक्ति; -कंठ—(पुं.) चास नामक पक्षी; -क—(पुं.) मिट्टी का घड़ा; -कणिका—(स्त्री.) काशी का एक तीर्थ विशय, रत्न जड़ा हुआ कान का एक आभूषण; -कानन—(पुं.) कण्ठ, गला, रत्नों का समूह; -कार—(पुं.) रत्नों को जड़कर गहने बनानेवाला; -कूट—(पुं.) कामरूप के एक पर्वत का नाम; -केतु—(पुं.) एक बहुत छोटा पुच्छल तारा; -गुण—(पुं.) एक वणिक वृत्त जिसको शशिकला या शरभ भी कहते हैं; -०निकर—(पुं.) एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में पंद्रह अक्षर होते हैं; -ग्रीव—(पुं.) कुवेर के एक पुत्र का नाम; -चूड़—(पुं.) एक विद्याधर का नाम; -तारक—(पुं.) सारस पक्षी; -दोप—(पुं.) रत्नादि के दोप; -धर—(पुं.) सर्प, साँप; -पुर—(पुं.) तन्त्र के अनुसार पट्चक्रों में से एक जो नाभि-देश में अवस्थित है; -प्रभा—(स्त्री.) एक छन्द का नाम; -बंध—(पुं.) करग्रन्थि, कलाई, गद्दा, नौ अक्षरों के एक वृत्त का नाम; -बीज—(पुं.) अनार का वृक्ष; -भद्र—(पुं.) शिवजी के एक प्रधान गण का नाम; -भावर—(पुं.) सारस पक्षी; -भू—(स्त्री.) वह खान जिससे

रत्न निकलते हैं; -भूमि—(स्त्री.) रत्नों की खान; -मंजरी—(स्त्री.) एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में उन्नीस अक्षर होते हैं; -मंडप—(पुं.) रत्नमय मंडप; -मंथ—(पुं.) सेंधा नमक; -मध्य—(पुं.) एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में नौ अक्षर होते हैं; -माला—(स्त्री.) मणियों की माला, हार, चमक, दीप्ति, लक्ष्मी, एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में बारह अक्षर होते हैं; -रत्न—(पुं.) हीरा; -राग—(पुं.) इंगूर, शिगरफ; -राज—(पुं.) श्रेष्ठ मणि, उत्तम रत्न; -श्याम—(पुं.) इन्द्रनील मणि, नीलम; -सरं, -सूत्र—(पुं.) मोतियों की माला।
 मणी—(हि.पुं.) सर्प, साँप; (सं.स्त्री.) मणि।
 मणीवक—(सं. पुं.) पुष्प, फूल।
 मंतंग—(सं. पुं.) मेघ, बादल, एक ऋषि का नाम जो शवरी के पुत्र थे, एक दानव का नाम, हाथी।
 मंतंगज—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी।
 मंतंगा—(हि. पुं.) एक प्रकार का बाँस।
 मंतंगी—(हि. पुं.) हाथी का सवार।
 मत—(सं. पुं.) सम्मति, राय, आशय, धर्म, पन्थ, ज्ञान, सम्प्रदाय, मतदान; (हि. अव्य.) निषेध-वाचक शब्द, नहीं; -दान—(पुं.) राष्ट्रीय चुनाव आदि में अपना मत देना।
 मतना—(हि. क्रि. अ.) आशय स्थिर करना, उन्मत्त होना।
 मतरिया—(हि. स्त्री.) देखें 'माता'।
 मतलब—(अ.पुं.) अभिप्राय, आशय, अर्थ, गरज।
 मतलबी—(अ. वि.) मतलब रखनेवाला।
 मतवार, मतवारा—(हि. वि.) देखें 'मतवाला'।
 मतवाला—(हि. वि.) उन्मत्त, पागल, धन आदि का गर्व करनेवाला; (पुं.) शत्रु को मारने के लिये पहाड़ या गढ़ पर से फेंका हुआ पत्थर, एक प्रकार का कागज का बना हुआ खिलौना जिसकी पदी भारी होती है, इसलिये फेंकने पर यह जमीन पर खड़ा गिरता है।
 मत्ता—(हि.पुं.) देखें 'मत'; (स्त्री.) देखें मति।
 मत्ताधिकार—(सं.पुं.) मत देने का अधिकार।
 मतानुयायी—(सं. वि., पुं.) किसी मत के अनुसार आचरण करनेवाला, किसी के मत को माननेवाला।
 मतारी—(हि. स्त्री.) महतारी, माता।
 मतावलंबी—(सं. वि., पुं.) किसी मत, सिद्धान्त या सम्प्रदाय का अवलंबन करनेवाला।
 मति—(सं. स्त्री.) बुद्धि, इच्छा, स्मृति,

सम्मति; (हि. अव्य.) देखें 'मत' सदृश, समान, अनुरूप; -गर्भ—(वि.) बुद्धिमान्, चतुर; -दर्शन—(पुं.) वह प्रज्ञा-शक्ति जिससे दूसरे के मन का भाव जाना जाता है; -पूर्वक—(अव्य.) बुद्धि-पूर्वक, सोच-विचारकर; -भेद—(पुं.) बुद्धि की भिन्नता; -भ्रंश—(पुं.) बुद्धि-नाश, पागलपन; -भ्रम—(पुं.) बुद्धिभ्रंश, बुद्धिनाश; -भ्रांति—(स्त्री.) मति-भ्रम; -मत्—(वि.) बुद्धिमान्, विचारवान्; (पुं.) शिव; -मान्—(वि.) बुद्धिमान्, विचारवान्; -माह—(वि.) मतिमान्; -विभ्रम—(पुं.) उन्माद रोग, बुद्धिनाश; -शाली—(हि. वि.) मेधावी, बुद्धिमान्।
 मती—(हि.स्त्री.) देखें 'मति'; (अव्य.) मत
 मतीरा—(सं. पुं.) कर्लिंगक, तरबूज।
 मतीश्वर—(सं.पुं.) विश्वकर्मा का एक नाम
 मतीस—(हि. पुं.) एक प्रकार का बाजा।
 मत्कुण—(सं. पुं.) खटमल, विना मूँछ का आदमी, नारियल का फल या वृक्ष।
 मत्कुणिका—(सं. स्त्री.) कुमार की एक मातृका का नाम।
 मत्त—(सं.पुं.) घतूरा, कोयल, भैंस, मस्त हाथी; (वि.) उन्मत्त, पागल, प्रसन्न; (हि. स्त्री.) मात्रा; -काशिनी—(स्त्री.) उत्तम नारी; -कौश—(पुं.) हस्ती, हाथी; -गामिनी—(स्त्री.) उन्मत्त गज की तरह चलनेवाली स्त्री; -ता—(स्त्री.) मतवालापन; -ताई—(हि. स्त्री.) मतवालापन; -नाग—(पुं.) मतवाला हाथी; -मयूर—(पुं.) मेघ, बादल, पंद्रह अक्षरों का एक वृत्त; -मातंग लीलाकर—(पुं.) दण्डक वृत्त का एक मद; -वारण—(पुं.) मकान के आगे का दालान, आँगन के ऊपर की छत, सुपारी का चरा, मतवाला हाथी; -विलासिनी—(स्त्री.) एक छन्द का नाम; -समक—(पुं.) चौपाई छन्द का एक भेद।
 मत्ता—(सं. स्त्री.) मदिरा, एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में बारह अक्षर होते हैं; (प्रत्य.) एक भाववाचक प्रत्यय जो "पन" के अर्थ का होता है, यथा—बुद्धिमत्ता, नीतिमत्ता आदि।
 मत्ताक्रीडा—(सं. स्त्री.) तेईस अक्षरों का एक छन्द।
 मत्तेभगमना—(सं. स्त्री.) मतवाले हाथी के समान चालवाली स्त्री।
 मत्तेभक्तीक्रीडित—(सं. पुं.) एक छन्द

जिसके प्रत्येक चरण में २१ अक्षर होते हैं ।
मत्था—(हि. पुं.) ललाट, माथा, सिर, किसी पदार्थ का अगला या ऊपरी भाग ।
मत्सर—(सं. पुं.) किसी का विभव या सुख न देख सकना, ईर्ष्या, डाह, जलन, क्रोध; (वि.) कृपण, कंजस, डाह करनेवाला; —**ता**—(स्त्री.) डाह, जलन ।
मत्सरी—(सं. वि.) दूसरे से डाह रखनेवाला ।
मत्स्य—(सं. पुं.) मीन, मछली, विराट् देश, नारायण, मीन राशि, छप्पय छंद का एक भेद; —**गंधा**—(स्त्री.) जलपीपल, व्यास की माता सत्यवती का एक नाम, सोमलता; —**धानी**—(स्त्री.) मछली रखने का पात्र; —**नारी**—(स्त्री.) देखें 'मत्स्यांगना'; —**पुराण**—(पुं.) अठारह महापुराणों में से एक पुराण का नाम; —**बंध**—(पुं.) मछली पकड़नेवाला, धीवर; —**बंधन**—(सं. पुं.) मछली पकड़ने की बंसी; —**मुद्रा**—(स्त्री.) तांत्रिक पूजाओं में धारण की जानेवाली एक मुद्रा; —**रंग**—(पुं.) एक प्रकार की चिड़िया; —**राज**—(पुं.) विराट् देश का राजा, रोहू मछली ।
मत्स्यांगना—(सं. स्त्री.) मत्स्यनारी, वह कल्पित प्राणी जिसका मुख स्त्री के समान तथा बाकी शरीर का भाग मछली के समान होता है ।
मत्स्याक्षक—(सं. पुं.) सोमलता ।
मत्स्यावतार—(सं. पुं.) भगवान् का मत्स्यरूपी अवतार ।
मत्स्याशन—(सं. पुं.) मत्स्यभक्षक, मछली खानेवाला ।
मत्स्यासन—(सं. पुं.) तांत्रिकों की साधना में योग का एक आसन ।
मत्स्येन्द्रनाथ—(हि. पुं.) मध्य-युग के एक हठयोगी साधु जो गोरखनाथ के गुरु थे ।
मत्स्योदरी—(सं. स्त्री.) व्यास की माता सत्यवती, काशी के एक तीर्थ का नाम, मच्छोदरी ।
मत्स्योपजीवी—(सं. पुं.) धीवर, मल्लाह ।
मथन—(सं. पुं.) मथने की क्रिया या भाव, विलोडन, गनियारी नामक झाड़, एक अस्त्र का नाम; (वि.) मथनेवाला ।
मथना—(हि. क्रि. स.) किसी तरल पदार्थ को लकड़ी आदि से वेगपूर्वक हिलाना या चलाना, इस प्रकार चलाकर मिलाना, घुंस करना, नष्ट करना, घूम-घूमकर पता लगाना, किसी काम को बारंबार करना, टीसना; (पुं.) मथानी, रई ।
मथनियाँ (या)—(हि. स्त्री.) मथानी; (पुं.)

दूध को मथकर मक्खन निकालनेवाला ।
मथनी—(हि. स्त्री.) मथन की क्रिया, वह मटका जिसमें दही मथा जाता है, मथानी ।
मथवाह—(हि. पुं.) पीलवान, महावत ।
मथानी—(हि. स्त्री.) काठ का डंडा जिसके सिरे पर एक खोरिया लगी रहती है, (इससे दही मथकर मक्खन निकाला जाता है) ।
मथित—(हि. वि.) मथा हुआ; (पुं.) साड़ी-समेत भली-भाँति फेंटा हुआ दही ।
मथुरा—(सं. स्त्री.) यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर जो पुराणों के अनुसार सात भोक्षदायिका पुरियों में से एक है ।
मथुरिया—(हि. वि.) मथुरा से संबद्ध, मथुरा का ।
मथुरेश—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण ।
मथौरा—(हि. पुं.) बड़इयों का एक प्रकार का रंदा ।
मथौरी—(हि. स्त्री.) स्त्रियों का सिर पर पहिने का एक गहना ।
मथ्य—(सं. वि.) मथने योग्य; (हि. पुं.) माथा ।
मदंघ—(हि. वि.) देखें 'मदांघ' ।
मद—(सं. पुं.) गन्धयुक्त एक द्रव जो मस्त हाथी की कनपटियों से बहता है, आनन्द, हर्ष, वीर्य, एक दानव का नाम, कामदेव, मादकता, नशा, गर्व, अहंकार, मद्य, उन्माद रोग, मतवालापन, कस्तूरी; (वि.) मत्त, मतवाला ।
मदक—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का मादक पदार्थ जो अफीम के सत्त से बनाया जाता है, (तमाखू की तरह इसको लीग चिलम पर रखकर पीते हैं) ।
मदकची—(हि. पुं.) मदक पीनेवाला ।
मदकद्रुम—(सं. पुं.) ताड़ का पेड़ ।
मदकर—(सं. पुं.) धतूरे का पौधा, सुरा; (वि.) मद या नशा करनेवाला ।
मदकल—(सं. पुं.) मस्त हाथी; (वि.) मतवाला, उन्मत्त, बावला ।
मदकारी—(सं. वि.) मद या नशा उत्पन्न करनेवाला ।
मदकी—(हि. वि.) मदक पीनेवाला, मदकची ।
मदखला—(अ. स्त्री.) रखेली औरत ।
मदगंधा—(सं. स्त्री.) मदिरा ।
मदगल—(सं. वि.) मत्त, बावला ।
मदजल—(सं. पुं.) मत्त हाथी की कनपटी का स्राव ।
मदद—(अ. स्त्री.) सहायता; —**गार**—(वि., पुं.) मदद करनेवाला ।

मदन—(सं. पुं.) कामदेव, वसन्त, मद, धतूरा, मैनफल, भौरा, उड़द, खैर का वृक्ष, वकुल वृक्ष, मौलसिरी, कामशास्त्र के अनुसार एक प्रकार का आलिंगन, मँना, अखरोट का वृक्ष, भोग, ज्योतिष में लग्न से सातवें स्थान का नाम, प्रेम, एक प्रकार का गीत, रूपमाला छन्द का दूसरा नाम, छप्पय का एक भेद, खंजनपक्षी; —**क**—(पुं.) दमनक, दौना, मोम, खैर, धतूरा, मैनफल, मौलसिरी; —**कदन**—(पुं.) शिव, महादेव; —**गृह**—(पुं.) स्त्री की योनि; —**गोपाल**—(पुं.) श्रीकृष्ण; —**चतुर्दशी**—(स्त्री.) चैत्र शुक्ल-चतुर्दशी; —**चौर**—(पुं.) एक प्रकार का छोटा पक्षी; —**ताल**—(पुं.) संगीत में एक प्रकार का ताल; —**दमन**, —**दहन**—(पुं.) शिव, महादेव; —**दोला**—(स्त्री.) इन्द्रताल का एक भेद; —**नालिका**—(स्त्री.) दुश्चरित्रा स्त्री; —**पक्षी**—(पुं.) खंजन पक्षी; —**पति**—(पुं.) इन्द्र, विष्णु; —**पाठक**—(पुं.) कोकिल, कोयल; —**पाल**—(पुं.) रति-पति, कामदेव; —**फल**—(पुं.) मैनफल; —**वान**—(हि. पुं.) एक प्रकार का बहुत अच्छी और तीव्र गन्ध का वेले का फूल; —**भवन**—(पुं.) मदनगृह; —**मंजरी**—(स्त्री.) दैत्यराज दुंदुभि की कन्या, नायिका का एक भेद; —**मनोरमा**—(स्त्री.) सवैया छन्द का एक भेद, इसका दूसरा नाम दुर्मिल है; —**मनोहर**—(पुं.) दण्डक का एक भेद, मनोहर छन्द; —**मल्लिका**—(स्त्री.) मल्लिका वृत्त का एक नाम; —**मस्त**—(पुं.) चंपे की जाति का उग्र तथा मोहक गन्ध का एक फूल; —**महोत्सव**—(पुं.) चैत्र शुक्ल-एकादशी से चतुर्दशी तक होनेवाला प्राचीन काल का एक सार्वजनिक उत्सव, होली का एक भेद; —**मोदक**—(पुं.), —**मालिनी**—(स्त्री.) सवैया छन्द का एक भेद; —**मोहन**—(पुं.) श्रीकृष्ण; —**रिपु**—(पुं.) शिव, महादेव; —**रेखा**—(स्त्री.) विक्रमादित्य की माता का नाम; —**ललिता**—(स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सोलह वण होते हैं; —**लेख**—(पुं.) नायक-नायिका का परस्पर प्रेम-पत्र; —**शलाका**—(स्त्री.) सारिका, मँना, कोयल; —**सदन**—(पुं.) स्त्री की योनि; —**सारिका**—(स्त्री.) मँना पक्षी; —**हर**—(पुं.) देखें 'मदनहरा'; —**हरा**—(स्त्री.) चालीस

मात्राओं के एक छन्द का नाम ।
 मदनानुश- (सं. पुं.) पुरुष का लिंग ।
 मदनान्तक- (सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 मदनान्ध- (सं. वि.) कामान्ध ।
 मदनानि- (सं. पुं.) सारिका पक्षी, मैना ।
 मदनानुध- (सं. पुं.) कामदेव का अस्त्र ।
 मदनारि- (सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 मदनालय- (सं. पुं.) स्त्री की योनि, भग ।
 मदनानुस्था- (सं. स्त्री.) प्रेमियों की कामुकावस्था ।
 मदनानुत्र- (सं. पुं.) देखें 'मदनायुध' ।
 मदानी- (सं. स्त्री.) सुरा, मदिरा, कस्तूरी, सेयी ।
 मदानीया- (सं. स्त्री.) मल्लिका, वेला ।
 मदनोत्सव- (सं. पुं.) एक प्रकार का उत्सव, देख 'मदन-महोत्सव' ।
 मदनोत्सवा- (सं. स्त्री.) स्वर्ग, वेश्या, अप्सरा ।
 मदनोद्यान- (सं. पुं.) सुन्दर बगीचा ।
 मदनमत्त- (सं. वि.) मद में चूर, एक छन्द का नाम ।
 मदनराग- (सं. पुं.) मद में चूर मनुष्य, पागल, मुर्गा ।
 मदनलेखा- (सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सात अक्षर होते हैं, मतवाले हाथियों के मद-त्ताव की रेखा ।
 मदनारि- (सं. पुं.) हाथी का मद ।
 मदनसार- (सं. पुं.) ताल वृक्ष, सहतूत का वृक्ष ।
 मदनस्थल- (सं. पुं.) मदिरा पीने का स्थान ।
 मदान्ध- (सं. वि.) मस्त, मत्त ।
 मदार- (सं. पुं.) हाथी, सूअर, कामुक; (हि. पुं.) आक का वृक्ष, अकवत ।
 मदारिया, मदारी- (हि. पुं.) मुसलमान फकीर-संप्रदाय का एक फकीर, (ये लोग शाह-मदार के अनुयायी हैं ।) वन्दर, मालू आदि का तमाशा दिखलानेवाला, क्लेवर, वाजीगर ।
 मदालस- (सं. पुं.) मद के कारण आलस्य ।
 महालसा- (सं. स्त्री.) गन्धर्वराज-विश्व-केतु की परम विदुषी और ब्रह्मवादिनी कन्या जिसको पातालकेतु राक्षस उठा ले जाकर पाताल में रखा था ।
 मदानुस्था- (सं. स्त्री.) कामुकता, मद ।
 मदिया- (हि. स्त्री.) मादा प्राणी ।
 मदिरा- (सं. स्त्री.) मद्य, कामुदेव की पत्नी का नाम, वाईस अक्षरों का एक वर्णिक छन्द ।
 मदिराक्ष- (सं. वि.) जिसकी आँखें मद से मरी हों ।
 मदिराक्षी- (सं. स्त्री.) मदोन्मत्त आँखों-वाली ।

मदिरागूह- (सं. पुं.) मद्यशाला ।
 मदिराणु- (सं. वि.) मद-मत्त, मदोन्मत्त ।
 मदीय- (सं. सर्व.) मेरा ।
 मदीला- (हि. वि.) मद से भरा-हुआ ।
 मदुल्ल- (हि. पुं.) दोहें का एक भेद, जिसका दूसरा नाम गायन्द है ।
 मदोत्कट- (सं. पुं.) कपोत, कवूतर (वि.) मदोन्मत्त ।
 मदोद्धत- (सं. वि.) मत्त, अभिमानी, घमंडी ।
 मदोन्मत्त- (सं. वि.) उन्मत्त, मदान्ध ।
 मदोल्लापी- (सं. पुं.) कोकिल, कोयल ।
 मदोबै- (हि. स्त्री.) देखें 'मदोदरी' ।
 मददूताही- (हि. पुं.) एक प्रकार का पुराना ताँबे का चौकोर पैसा ।
 मद्धिम- (हि. वि.) मध्यम, मत्त, तुलना में या अपेक्षाकृत कम अच्छा ।
 मद्धे- (हि. अव्य.) संवंध में, विषय में, बीच में, लेख में ।
 मद्य- (सं. पुं.) सुरा, मदिरा; (वि. पुं.) मदिरा पीनेवाला; (पुं.) मदिरा पीता; (स्त्री.) खमीर जो मद्य बनाने में उतारा जाता है; -सोद- (पुं.) बकुल वृक्ष, मौलसिरी; -वासिनी- (स्त्री.) धव का पेड़ ।
 मद्य- (सं. पुं.) एक प्राचीन जनपद जो वर्तमान रावी और झेलम नदी के बीच में था, हर्ष, आनन्द, कौर- (वि.) मंगलकारक; -सुता- (स्त्री.) नकुल तथा सहदेव की माता का नाम; माद्री ।
 मद्य- (हि. पुं.) देखें 'मध्य' (अव्य.) में ।
 मद्यन्त- (सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 मद्यस- (हि. पुं.) मध्यम, मद्धिम ।
 मद्यु- (सं. पुं.) मद्य, जल, प्राणी; दुर्ग, मकरन्द, महुवे का वृक्ष, अमृत, सुधा, धी, मुलेठी, मन्त्रना, शिव; महादेव, मिस्री, अशोक वृक्ष, एक दैत्य-जिसको विष्णु ने मारा था; मीठा रस, जैत का महीना, एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में दो लघु वर्ण होते हैं, एक राग का नाम (वि.) मीठा, स्वादिष्ट; -कठ- (पुं.) कोकिल, कोयल; -क- (पुं.) जेठीमधु; वपु, सीसा, महुवे का पेड़ या फल; -कर- (पुं.) अमर, मीरा; -कामी- पुरुष; -करी- (स्त्री.) अमरी, मीरी; वह भिक्षा जिसमें पका हुआ अन्न दिया जाता है; -का- (स्त्री.) एक प्रकार की लता; -कुभा- (स्त्री.) (कार्तिकेय की एक मातृका का नाम; -छत्त- (पुं.) अमर, मीरा; -कंदम- (पुं.) मधु और कंदम का नाम; -असुर, जिज्ञासु

जिज्ञासु के साथ शत्रु; -लोष; -कोर- (पुं.) मधुमक्खी का छत्ता; (गंध- (पुं.) मीठी; महक, शर्जत, वृक्ष, मौलसिरी का पेड़; -गोपन- (पुं.) कोयल; -धीष- (पुं.) कोकिल, कोयल; -ध्रुव- (पुं.) मधुमक्खी का छत्ता; -छदा- (स्त्री.) मोरशिखा नाम की वृद्धी; -ज- (पुं.) सिन्धु, सोम; -ज- (स्त्री.) पृथ्वी; सीता; शककर; -जित- (पुं.) विष्णु; -जोरक- (पुं.) सौफ; -तण- (पुं.) इक्षु, ईख; -त्व- (पुं.) माधुर्य; मधुरज, मीठापन; -वीप- (पुं.) कन्दर्प, कामदेव; -दोह- (पुं.) मधु निकालने की क्रिया; -दुम- (पुं.) महुवे का वृक्ष; -द्विष्- (पुं.) विष्णु; -धारा- (स्त्री.) मधु की वृष्टि; -नी- (स्त्री.) एक प्रकार का पौधा; -प- (पुं.) अमर, मीरा; मधुमक्खी; -पदल- (पुं.) मधुमक्खी का छत्ता; -पति- (पुं.) श्रीकृष्ण; -पक- (पुं.) पूजित (का एक उप-त्रा-जिससे दही, श्री, जल, मधु और चीनी मिलाकर देवताओं को चढाया जाता है; -पाका- (स्त्री.) पड़सुजा, खरवृजा; -प्राथी- (पुं.) अमर, मीरा; मधु पीनेवाला; -पील- (पुं.) अखरोट का वृक्ष; -पुरी- (स्त्री.) मधुरा नगरी; -पुष्प- (पुं.) सिरीस का पेड़; -पुष्पा- (स्त्री.) धव का वृक्ष; -प्रेम- (पुं.) वह राग जो जिसमें मूक को साथ शककर गिरती है; -प्रिय- (पुं.) बलराम; -फल- (पुं.) मीठा, सारियल, द्राव; -वन- (पुं.) वज्र भूमि के एक प्राचीन जनपद का नाम; -बहुला- (स्त्री.) वासन्ती लता, सफेद लहरी; -बीज- (पुं.) लड्डि, अनाद; -भारि- (पुं.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में आठ मात्राएँ होती हैं; -भिद- (पुं.) विष्णु; -मक्खी- (हि. स्त्री.) एक प्रकार की मक्खी जो फलों का रस चूसकर मधु-इकट्टा करती है; -मक्षिका- (स्त्री.) मधुमक्खी; -मखन- (पुं.) अखरोट का पेड़; -मती- (स्त्री.) मीरा, एक छन्द का नाम; -ममि- (वि.) वसन्त, सुषमा से मस्त; -मल्लिक- (स्त्री.) मालती लता; -माली- (हि. स्त्री.) मधुमक्खी; -मात- (पुं.) एक राग का नाम; -सांगति- (पुं.) सारंग राग का एक मद्य; -साधन- (पुं.) वसन्त-काल; -साधनी- (स्त्री.) एक रागिनी का

नाम, एक छन्द का नाम; -मालती-(स्त्री.) मालती लता; -मेह-(पुं.) प्रमेह रोग जिसम मूत्र के साथ शक्कर निकलती है; -यष्टि-(स्त्री.) इक्षु, ईख; -यष्टिका-(स्त्री.) जेठीमधु नामक औषधि; -रसिक-(पुं.) भ्रमर, भौरा; -लिह, -लोलुप-(पुं.) भ्रमर, भौरा; -वन-(पुं.) यमुना नदी के किनारे मथुरा के पास एक प्राचीन वन, किष्किंधा के पास का सुग्रीव का एक वन; -वर्ण-(वि.) सुन्दर स्वरूपवाला; -वल, -वामन-(पुं.) भ्रमर, भौरा; -वासिनी-(स्त्री.) धव का वृक्ष; -विद्या-(स्त्री.) मधु बनाने की विद्या; -बीज-(पुं.) दाड़िम, अनार; -वृक्ष-(पुं.) महुए का पेड़; -शर्करा-(स्त्री.) मधु से बनाई हुई शक्कर; -शिता-(स्त्री.) सफेद सेम; -श्री-(स्त्री.) वसन्त की शोभा; -संकाश-(वि.) देखने में सुन्दर; -संभव-(पुं.) सिक्थ, मोम; -सख-(पुं.) कंदर्प, कामदेव; -सहाय, -सुहृद्-(पुं.) कंदर्प, कामदेव; -सूदन-(पुं.) भ्रमर, भौरा, श्रीकृष्ण; -सूदनी-(स्त्री.) पालक का साग; -स्यान-(पुं.) मधु-मक्खी का छत्ता; -स्नेह-(पुं.) मोम; -स्यंदन-(पुं.) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम; -सवा-(स्त्री.) जेठीमधु, लजालू नामक पौधा; -स्वर-(पुं.) कोकिल, कोयल; -हन्-(पुं.) विष्णु।
मधुर-(सं. पुं.) मीठा रस, महुए का पेड़, बादाम का पेड़, विरोजा नीबू, बंग, रांगा, एक प्रकार का आम, एक प्रकार की घास; (वि.) जिसका स्वाद मीठा हो, मनोरंजक, सुन्दर, जो सुनने में अच्छा जान पड़े, धीरे चलनेवाला; -ई-(हिं. स्त्री.) सुकुमारता, मधुरता, कोमलता, मीठापन; -ता-(स्त्री.) मधुर होने का भाव, सौन्दर्य, सुन्दरता, मिठास, कोमलता, मृदुता; -त्व-(पुं.) माधुर्य, मधुरता; -फल-(पुं.) तरबूज; -लता-(स्त्री.) जेठीमधु; -स्वर-(वि.) गन्धर्व।
मधुरा-(सं. स्त्री.) कमला नीबू, सतावर, पालक का साग, मसूर, केले का पौधा, जेठीमधु, सौंफ; -ई-(हिं. स्त्री.) मधुरता, कोमलता, सुन्दरता।
मधुराक्षर-(सं. वि.) सुन्दर अक्षर लिखनेवाला।
मधुरानन-(सं. वि.) सुंदर, मुख वाला।

मधुराक्ष-(सं. पुं.) मिठाई।
मधुराना-(हिं. क्रि. अ.) किसी वस्तु में मीठा रस आ जाना, मीठा होना, सुन्दर हो जाना।
मधुरालापा-(सं. स्त्री.) सारिका, मैना पक्षी।
मधुरासव-(सं. पुं.) आम्र, आम।
मधुरिका-(सं. स्त्री.) सौंफ।
मधुरिमा-(हिं. स्त्री.) मीठापन, मिठास, सौन्दर्य, सुन्दरता।
मधुरी-(हिं. स्त्री.) मुख से फूँककर बजाने का एक प्रकार का बाजा, आम का पेड़, सुन्दरता।
मधुल-(सं. पुं.) मद्य, मदिरा।
मधुलिका-(सं. स्त्री.) राजिका, राई, एक प्रकार का मद्य, मूँग, मसूर।
मधूक-(सं. पुं.) महुए का पेड़, मुलेठी।
मधूकरी-(सं. स्त्री.) मधूकरी, भ्रमरी।
मधूत्सव-(सं. पुं.) वसन्तोत्सव।
मधूलिका-(सं. स्त्री.) मुलेठी, एक प्रकार का मोटा घान, छोटे दान का गेहूँ, एक प्रकार की मक्खी।
मध्य-(सं. पुं.) अवसान, विश्राम, किसी वस्तु के बीच का भाग, कटि, कमर, नृत्य में मध्यमगति, संगीत में बीच का सप्तक, वैद्यक के अनुसार सोलह वर्ष से सत्तर वर्ष की अवस्था, अन्तर, भेद; (वि.) मध्यम, बीच का; -क्षामा-(स्त्री.) एक छंद का नाम; -खंड-(पुं.) ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी का वह भाग जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है; -गत-(वि.) मध्यस्थित, बीच का; -चारी-(वि.) औसत चाल चलनवाला; -तः-(अव्य.) मध्य में, बीच में; -ता-(स्त्री.) मध्यमें होनेका भाव या धर्म; -तापिनी-(स्त्री.) एक उपनिषद् का नाम; -दिन-(पुं.) मध्याह्न, दोपहर; -देश-(पुं.) भारत-वर्ष का वह प्रदेश जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्य पर्वत, पश्चिम में कुश्केत्र और पूर्व में प्रयाग है; -देह-(सं. पुं.) उदर, पेट; -प्रदेश-(पुं.) भारतवर्ष के मध्य भाग में स्थित एक प्रदेश; -भाव-(पुं.) मध्य अवस्था; -रात्र-(पुं.) निशीथ, आधी रात; -रेखा-(स्त्री.) पृथ्वी के मध्य भाग की कल्पित रेखा जो उत्तर-दक्षिण खींची गई मानी जाती है; -लोक-(पुं.) पृथ्वी; -वर्ती-(वि.) मध्य का, विचला; -वय-(स्त्री.) जीवन का मध्य भाग; -वृत्त-(पुं.) नामि; -शरीर-(पुं.) पेट, उदर; -शायी

-(वि.) मध्यवर्ती, बीच का; -स्थ-(पुं.) पंच, वह व्यक्ति जो बीच में पड़कर दो मनुष्यों के झगड़े आदि को निवटाता है; -ता-(स्त्री.) मध्यस्थ होने का भाव या धर्म; -स्थल-(पुं.) कटि, कमर; -स्थित-(वि.) मध्यवर्ती, बीच का।
मध्यम-(सं. पुं.) संगीत में चतुर्थ स्वर, इस नाम का राग, वह नायक जो नायिका के क्रोध दिखलाने पर अपना प्रेम प्रकट न करे; (वि.) बीच का, न बढ़िया, न घटिया; -खंड-(पुं.) विचला भाग; -जात-(वि.) मंजला; -ता-(स्त्री.) मध्यम होने का भाव, बीच की स्थिति; -पदलोपी-(पुं.) वह समास जिसमें पूर्व पद का आगामी पद से संबंध बतलानेवाला शब्द लुप्त रहता है; -पुरुष-(पुं.) व्याकरण के अनुसार वह व्यक्ति जिससे कुछ कहा जाय; -रात्र-(पुं.) मध्यरात्रि, आधी रात; -लोक-(पुं.) पृथ्वी; -वयस्-(स्त्री.) सोलह वर्ष से सत्तर वर्ष तककी अवस्था; -वाह-(वि.) मन्द गति से चलनेवाला; -स्थ-(वि.) मध्यस्थित, बीच का।
मध्यमा-(सं. स्त्री.) बीच की अँगुली, एक प्रकार का छन्द, छोटे जामुन का वृक्ष, रजस्वला स्त्री, वह नायिका जो अपने प्रियतम के प्रेम अथवा दोष के अनुसार उसका सत्कार या अपमान करे।
मध्यमादि-(सं. पुं.) संगीत में एक प्रकार का ताल।
मध्यमाहरण-(सं. पुं.) वीजगणित की वह क्रिया जिसके अनुसार कोई आयत्त मान निकाला जाता है।
मध्यमिक-(सं. वि.) बीच का।
मध्यमिका-(सं. स्त्री.) रजस्वला स्त्री।
मध्या-(सं. स्त्री.) काम-शास्त्र के अनुसार वह नायिका जिसमें काम और लज्जा समान हो, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तीन अक्षर होते हैं।
मध्याह्न-(सं. पुं.) दिन का मध्य भाग, दोपहर का समय।
मध्ये-(हिं. अव्य.) विषय में, वारे में।
मध्व-(सं. पुं.) माध्व सम्प्रदाय के प्रवर्तक।
मध्वक-(सं. पुं.) शहद की मक्खी।
मध्वक्ष-(सं. वि.) जिसके नेत्र में यौन प्रेम का माधुर्य हो।
मध्वाचार्य-(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो माध्व सम्प्रदाय के प्रवर्तक और वेदान्तों के प्रसिद्ध भाष्यकार थे।

मध्वाधार—(सं. पुं.) मधुमक्खी का छत्ता ।
 मध्वालु—(सं. पुं.) एक प्रकार के पीवे की जड़ जो खान में मीठी होती है ।
 मध्वासव—(सं. पुं.) महुए की वनी हुई मदिरा या शराव ।
 मध्वाहुति—(सं. स्त्री.) मधु की आहुति ।
 मनःक्षेप—(सं. पुं.) मन का उद्वेग ।
 मनःपति—(सं. पुं.) विष्णु ।
 मनःप्रसाद—(सं. पुं.) मन की प्रसन्नता ।
 मनःशास्त्र—(सं. पुं.) मनोविज्ञान, वह शास्त्र जिसमें मन तथा उसके विकारों का वर्णन हो ।
 मनःशिल, मनःशिला—(सं. पुं.) मैनसिल ।
 मनःस्थिर्य—(सं. पुं.) मन की स्थिरता ।
 मन—(सं. पुं.) अन्तःकरण, मनुष्य में वह अन्तरिन्द्रिय जिससे वेदना, इच्छा, संकल्प बोध, विचार आदि उत्पन्न होते हैं, इच्छा, अन्तःकरण की चार वृत्तियों में से वह वृत्ति जिससे संकल्प-विकल्प होता है; (मुहा.) —अटकना— प्रेम होना; —के लड्डू खाना—अनिश्चित आशा पर प्रफुल्लित होना; —चलना—अभिलाषा होना; —टटोलना—किसी के मन की बात जानने का उद्योग करना; —टूट जाना—हताश होना; —डोलना—लौभ उत्पन्न होना; —तोड़ना—उत्साह तोड़ना; —देना—चित्त लगाना; —धरना—ध्यान देना; —फेरना—चित्त हटा लेना; —बढ़ना—उत्साह बढ़ना; —बढ़ाना—उत्साह बढ़ाना; —बहलाना—चित्त प्रसन्न करना; —बूझना—चित्त का अभिप्राय जानना; —भरना या भर जाना—तृप्ति या संतोष होना; —भाना अच्छा लगना; —माना—अपनी इच्छानुसार; —मानना—तृप्ति या संतोष होना; —मारना—उदासीन बन जाना; —मिलना—एक दूसरे के विचार, प्रेम आदि समान होना; —में रखना—गुप्त रखना; —में लाना—विचारना; —मैला करना—खिन्न होना; —मोटा होना—चित्त हट जाना; —नोड़ना—चित्तवृत्ति को दूसरी ओर लगाना; —रखना—अभिलाषा पूर्ण करना; —लाना—चित्त लगाना; —हरा होना—चित्त प्रसन्न होना; —ही मन—चूपचाप, हृदय में ।
 मन—(हिं. पुं.) चालीस सेर की तौल, मणि, बहुमूल्य रत्न ।
 मनई—(हिं. पुं.) मनुष्य ।
 मनफना—(हिं. क्रि. अ.) हाथ-पैर आदि हिलाना, हिलाना-डोलना, तर्क-वितर्ककरना ।
 मनकरा—(हिं. वि.) प्रकाशमान, चमकदार ।

मनका—(हिं. पुं.) (विल्लौर, लकड़ी आदि का) छेदा हुआ गोल दाना जिसको पिरोकर माला या सुमिरनी बनाई जाती है, गुरिया, रीढ़ के ऊपर गरदन के पीछे की हड्डी ।
 मनकामना—(हिं. स्त्री.) मनोकामना, अभिलाषा, इच्छा ।
 मनगढ़ंत—(हिं. वि.) कपोल-कल्पित, जिसकी केवल कल्पना मात्र कर ली गई हो, जिसकी वास्तव में सत्ता न हो ।
 मनचला—(हिं. वि.) साहसी, निडर, रसिक ।
 मनचाहता—(हिं. वि.) मन के अनुकूल, यथेच्छ ।
 मनचाहा—(हिं. वि.) अभिलषित, इच्छित, वांछित ।
 मनचीता—(हिं. वि.) मनचाहा, मन में सोचा हुआ ।
 मनजात—(हिं. पुं.) कामदेव ।
 मनन—(सं. पुं.) अनुचिन्तन, वारंवार विचार करना, सोचना, अच्छी तरह से अध्ययन करना ।
 मननशील—(सं. वि.) किसी विषय पर अच्छी तरह मनन करनेवाला ।
 मननाना—(हिं. क्रि. अ.) गूँजना ।
 मनभाया—(हिं. वि.) जो मनको अच्छा लगे ।
 मनभावन—(हिं. वि.) मन को अच्छा लगनेवाला ।
 मनभावना—(हिं. वि.) प्रिय, प्यारा, जो अच्छा लगता हो ।
 मनमंत—(हिं. वि.) देखें 'मैमंत' ।
 मनभति—(हिं. वि.) स्वेच्छाचारी, अपने मन का काम करनेवाला ।
 मनमथ—(हिं. पुं.) देखें 'मन्मथ', कामदेव ।
 मनमागता—(हिं. वि.) मनोवांछित, मनमाना ।
 मनमाना—(हिं. वि.) मनोनीत, मन के अनुकूल, जो मन को अच्छा लगे, इच्छानुकूल; (अव्य.) यथेच्छ, जितना जी चाहे ।
 मनमुखी—(हिं. वि.) स्वेच्छाचारी, अपने मन का काम करनेवाला ।
 मनमुटाव—(हिं. पुं.) वैमनस्य होना, मन फिर जाना ।
 मनमोदक—(हिं. पुं.) मन का लड्डू, वह कल्पित या असंभव बात जो अपनी प्रसन्नता के लिये मन में बसाई गई हो ।
 मनमोहन—(हिं. वि.) मन को लुभानेवाला, प्रिय, प्यारा; (पुं.) श्रीकृष्ण, एक प्रकार का सदावहार वृक्ष, एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में चौदह मात्राएँ होती हैं ।
 मनमोहनी—(हिं. वि. स्त्री.) मनको लुभानेवाली

मनमौजी—(हिं. वि.) मनमाना काम करनेवाला, स्वेच्छाचारी ।
 मनरंज, मनरंजन—(हिं. वि.) मनोरंजक, चित्तको प्रसन्न करनेवाला (पुं.) मनोरंज ।
 मनलाडू—(हिं. पुं.) देखें 'मनमोदक' ।
 मनवाँ—(हिं. पुं.) नरमा, राम-कपास ।
 मनवांछित—(हिं. वि.) देखें 'मनोवांछित' ।
 मनवाना—(हिं. क्रि. स.) किसी को मानने में प्रवृत्त करना ।
 मनसना—(हिं. क्रि. अ.) संकल्प करना; इच्छा करना, दृढ़ निश्चय करना, संकल्प का मन्त्र पढ़कर कोई वस्तु दान करना ।
 मनसा—(सं. स्त्री.) एक देवी जिसकी पूजा ज्येष्ठ में गंगादशहरा के दिन बंगाल में घर-घर होती है; (हिं. स्त्री.) अभिलाषा, मनोरथ, संकल्प, कामना, इच्छा, अभिप्राय, मन, बुद्धि; (वि.) मन से उत्पन्न; (अव्य.) मन के द्वारा, मन से; —कर—(हिं. वि.) मनोरथ पूर्ण करनेवाला; —पंचमी—(सं. स्त्री.) आषाढ़ कृष्ण पंचमी का दिन ।
 मनसाना—(हिं. क्रि. अ., स.) उमंग या तरंग में आना, संकल्प का मन्त्र पढ़कर या पढ़ाकर दूसरे से दान आदि कराना ।
 मनसायन—(हिं. वि., पुं.) वह स्थान जहाँ मन बहलाने के लिये कुछ लोग इकट्ठे हों, मनोरम (स्थान) ।
 मनसिकार—(सं. पुं.) मनोयोग, ध्यान ।
 मनसिज, मनसिशय—(सं. पुं.) कन्दर्प, कामदेव ।
 मनसेधू—(हिं. पुं.) मनुष्य, मनई ।
 मनस्क—(सं. पुं.) मनोयोग, 'मन' शब्दका अल्पार्थ-रूप जिसका प्रयोग कुछ समस्त-पदों में होता है, यथा—तस्मनस्क ।
 मनस्कांत—(सं. वि.) मन के अनुकूल प्रिय ।
 मनस्काम—(सं. पुं.) मनोरथ, अभिलाषा ।
 मनस्ताप—(सं. पुं.) आन्तरिक दुःख, पछतावा ।
 मनस्ताल—(सं. पुं.) दुर्गा देवी के सिंह का नाम; (पुं.) हरताल ।
 मनस्थ—(सं. वि.) अन्तःकरण में स्थित ।
 मनस्विनी—(सं. स्त्री.) श्रेष्ठ विचार की स्त्री, प्रजापति की एक स्त्री का नाम ।
 मनस्वी—(सं. पुं.) उच्च विचारवाला, स्वेच्छाचारी ।
 मनहंस—(सं. पुं.) पंद्रह अक्षरों का एक वर्णवृत्त ।
 मनहर—(हिं. वि.) मन को हरनेवाला, मनोहर, घनाक्षरी छन्द का एक नाम ।
 मनहरण—(सं. पुं.) मन को हरने की

क्रिया या भाव, पंद्रह अक्षरों का एक छंद जिसको मन्दिनी या भ्रमरावली भी कहते हैं; (वि.) मनोहर, सुन्दर।
 मनहरन—(हि. वि.) मन को हरनेवाला।
 मनहार, मनहारि—(हि. वि.) देखें 'मनोहारि'
 मनहुं—(हि. अव्य.) मानो, जैसे, यथा।
 मनाई—(हि. स्त्री.) देखें 'मनाही'।
 मनाक—(हि. वि.) अल्प, थोड़ा।
 मनाका—(सं. स्त्री.) हस्तिनी, हथिनी।
 मनाक—(सं. अव्य.) थल्प, थोड़ा, मन्द।
 मनाना—(हि. क्रि. स.) मानने के लिए प्रेरित, बाध्य या उद्यत करना, स्वीकार कराना, जो अप्रसन्न हो उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, राजी करना विनय करना, किसी मनोकामना के पूर्ण होने के लिये देवी-देवता से प्रार्थना करना, मनाती करना।
 मनावन—(हि. पुं.) अप्रसन्न व्यक्ति को प्रसन्न करन का काम, मनाने की क्रिया।
 मनावी—(सं. स्त्री.) मनु की पत्नी का नाम।
 मनाही—(हि. स्त्री.) निषेध, रोक।
 मनि—(हि. स्त्री.) देखें 'मणि'।
 मनिका—(हि. स्त्री.) माला में पिराया हुआ दाना, गुरिया।
 मनिता—(सं. वि.) शात।
 मनिया—(हि. स्त्री.) मनका, गुरिया, कंठी या माला में पिराया हुआ दाना।
 मनियार—(हि. वि.) देवीप्यमान, चमकोला।
 मनहार—(हि. पुं.) चूड़ी बनानेवाला, चुड़िहारा।
 मनहारिन—(हि. स्त्री.) चुड़िहारिन।
 मनी—(हि. स्त्री.) देखें 'मणि', धर्म, गर्व, अहंकार।
 मनीषा—(सं. स्त्री.) बुद्धि, प्रगंठा।
 मनोपित—(सं. वि.) अनिलपिन, वांछित।
 मनोपिता—(सं. स्त्री.) बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी।
 मनीषी—(सं. पुं.) पण्डित, जानी, बुद्धिमान्।
 मनु—(सं. पुं.) मनुष्य, मनु, ब्रह्मा के पुत्र जो मानव जाति के आदि पुरुष थे और संख्या में चौदह हैं, इनके नाम—स्वामनुष, स्वारोचिष, उत्तम, तामर, रैवत, चाभुष, वैवस्वत, सावणि, दक्षसावणि, प्रदसावणि, रघुसावणि, देवसावणि, धर्मसावणि और इन्द्रसावणि हैं, मन, अन्तःकरण, विष्णु, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, चोन्द की संख्या; (हि. अव्य.) मानो, जैसे।

मनुआं—(हि. पुं.) मन, मनुष्य, नरमा, रोमर का कपास।
 मनुज—(सं. पुं.) मनुष्य, आदमी;—पति—(पुं.) राजा;—लोक—(पुं.) मृत्युलोक।
 मनुजा—(सं. स्त्री.) स्त्री, नारी।
 मनुजात—(सं. वि.) मनु या मनुष्य से उत्पन्न।
 मनुजाद—(सं. पुं.) मनुष्य को खानेवाला राक्षस।
 मनुजाधिप—(सं. पुं.) मनुष्यों का अधिपति, राजा।
 मनुजेंद्र—(सं. पुं) देखें 'मनुजाधिप'।
 मनुयग—(सं. पुं.) मन्वन्तर।
 मनुराज—(सं. पुं.) कुबेर।
 मनुश्रेष्ठ—(सं. पुं.) विष्णु।
 मनुष—(हि. पुं.) मनुष्य, आदमी, पति।
 मनुषेंद्र—(हि. पुं.) मनुजद्र।
 मनुष्य—(सं. पुं.) मनुज, मानव, पुरुष, आदमी, नर;—कार—(पुं.) पुरुषों द्वारा की हुई चेष्टा;—गंधर्व—(पुं.) मानव-रूपी गंधर्व;—ता—(स्त्री.) मनुष्य का भाव या धर्म, सन्ध्याता, गिष्टता, दयानाव, चित्त की कोमलता;—स्व—(पुं.) मनुष्य का भाव या धर्म;—यज्ञ—(पुं.) अतिवि-सत्कार;—रय—(पुं.) वह रय जिसको मनुष्य खींचते हैं;—लोक—(पुं.) मूलोक, पृथ्वी;—तव—(पुं.) मनुष्य द्वारा किया हुआ यज्ञ।
 मनुसंहिता—(सं. स्त्री.) मानव धर्मशास्त्र।
 मनुसाई—(हि. स्त्री.) पुरुषार्थ, परामर्श, मनुष्यता।
 मनुस्मृति—(सं. स्त्री.) मनुप्रणीत एक धर्म-ग्रन्थ, मानव धर्मशास्त्र, मनुसंहिता।
 मनुहार—(हि. स्त्री.) मनाती, वह धिनती जो किसी को प्रसन्न करने या शोच शान्त करने के लिये की जाती है, विनय, प्रार्थना, आदर-सत्कार।
 मनुहारता—(हि. क्रि. स.) मनाना, आदर-सत्कार करना, विनय करना, प्रार्थना करना।
 मनरो—(अ. स्त्री.) मुक्तदावादी कलई करने की युक्तनी।
 मनो—(हि. अव्य.) मानो।
 मनोकामना—(हि. स्त्री.) अभिलाषा, इच्छा।
 मनोगत—(सं. वि.) मनःस्थित, जो मन में हो; (पुं.) कन्धर्ष, कामदेव, विचार।
 मनोगति—(सं. स्त्री.) मन की गति, चित्त-वृत्ति, अभीष्ट, इच्छा।
 मनोगवी—(सं. स्त्री.) इच्छा, अभिलाषा।
 मनोर—(सं. पुं.) कन्धर्ष, कामदेव, मदन।
 मनोजव—(सं. पुं.) विरह, मन का वेग, वायु के एक पुत्र का नाम, रश्मि के एक

पुत्र का नाम; (वि.) चित्तवृत्त, अधिक धेगवान्।
 मनोजात—(सं. वि.) जो मन में उत्पन्न हो।
 मनोल—(सं. वि.) रचिर, सुन्दर, मनोहर;—ता—(स्त्री.) सुन्दरता।
 मनोजा—(सं. स्त्री.) रचयनी स्त्री, सुन्दरी, मँनसिल, मदिरी, मंगरला, जतिपति का फूल।
 मनोदाही—(हि. वि.) मन को जलानेवाला।
 मनोदुष्ट—(सं. वि.) दुष्ट या कुत्सित हृदयवाला।
 मनोदेवता—(सं. पुं.) अन्तरात्मा, विवेक।
 मनोयत—(सं. वि.) विनिन्दित।
 मनोनिग्रह—(सं. पुं.) चित्त की वृत्तियों का निरोध, मन को दम में रखना।
 मनोनीत—(हि. वि.) चुना हुआ।
 मनोभव—(सं. पुं.) कन्धर्ष, कामदेव; (वि.) मन में उत्पन्न।
 मनोभिराम—(सं. वि.) मनोम, सुन्दर।
 मनोगूत—(सं. पुं.) चन्द्रमा।
 मनोमदन—(सं. पुं.) मदन, कामदेव।
 मनोमय—(सं. वि.) मनोमय, मानसिक;—कोश—(पुं.) वेदान्त शास्त्र के अनुसार पाँच कोशों में से वह कोश जिसमें अन्तर्गत मन, अहंकार और कामेश्वरी मानी जाती है।
 मनोपायी—(हि. वि.) इच्छासुचार पक्ष करनेवाला।
 मनोयोग—(सं. पुं.) चित्तवृत्ति का निरोध करके एकाग्र करना और किसी एक विषय पर लगाना।
 मनोधीनि—(सं. पुं.) कन्धर्ष, कामदेव।
 मनोरंजक—(सं. वि.) चित्त की प्रसन्न करनेवाला।
 मनोरंजन—(सं. पुं.) चित्त को प्रसन्न करने की क्रिया या भाव, एक रंगना मिर्जा का नाम।
 मनोरय—(सं. पुं.) अभिलाषा, इच्छा, इच्छा;—तृतीया—(स्त्री.) मंत्र शक्त मनीषा जिन दिन इन करने से मनोमय चित्त होता है;—दास्य—(सं. पुं.) अभीष्ट पक्ष वेदशास्त्र, कामदेव;—दास्यी—(स्त्री.) मंत्र शक्त मनीषा;—मिद्धि—(स्त्री.) अभिलाषा का पुत्र रंगना मनोरम—(सं. वि.) सुन्दर, मनोमय, मनीषा का एक पुत्र जिसकी प्रसन्न करने में मनीषा सावर्ण्यी होती है।
 मनोरमा—(सं. स्त्री.) मनोरम, मन की एक मन्त्रिण का नाम, मनोरम नामकी प्रसन्न करने में उस वर्ण होती है, रंगना

छन्द का एक नाम, आर्या छन्द का एक भेद, चौदह अक्षरों का एक वर्णवृत्त, दस अक्षरों का एक वर्णवृत्त, सात सरस्वतियों में से चौथी का नाम; (इन सातों के नाम-सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, सरस्वती, सुरेणु और विमलोदका हैं।)

मनोरा-(हिं. पुं.) भीत पर गोबर से बनाये हुए चित्र जो दीपावली के बाद रंग-विरंगे फूल-पत्तों से सजाकर प्रतिदिन सन्ध्या को दीपक जलाकर पूजे जाते हैं और झूमक गीत गाया जाता है।

मनोराज-(हिं. पुं.) मन की कल्पना, मनगड्ढत।

मनोरिया-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की चाँदी की सिकड़ियों की शृंखला जिसको स्त्रियाँ ओढ़नी या साड़ियों के किनारे पर टाँक देती हैं जो उनके सिर पर लटकती हैं।

मनोलय-(सं. पुं.) मन का नाश, (प्रकृति-पुरुष के मिल जाने पर मन की चेतना लुप्त हो जाती है।)

मनोलौल्य-(सं.पुं.) चित्त की चंचलता।

मनोवती-(सं.स्त्री.) एक अप्सरा का नाम।

मनोवांछा-(सं.स्त्री.) इच्छा, अभिलाषा।

मनोवांछित-(सं.वि.) इच्छित, चाहा हुआ।

मनोविकार-(सं. पुं.) मन की वह अवस्था जिसमें किसी प्रकार का सुखद या दुःखद भाव, विचार या विकार उत्पन्न हो।

मनोविज्ञान-(सं. पुं.) वह शास्त्र जिसमें मन की वृत्तियों का अनुशीलन होता है।

मनोविद्-(सं. वि.) मन के भावों को जाननवाला।

मनोवृत्ति-(सं. स्त्री.) मन का व्यापार या कार्य।

मनोवेग-(सं. पुं.) मनोविकार।

मनोव्यापार-(सं. पुं.) मन की क्रिया, विचार।

मनोसर-(हिं. पुं.) मन की वृत्ति।

मनोहत-(सं. वि.) प्रतिहत, निराश।

मनोहर-(सं. वि.) सुन्दर, चित्त को आकर्षण करनेवाला; (पुं.) सोना, छप्पय का एक भेद, एक संकर राग का नाम; -ता- (स्त्री.); -ताई- (हिं. स्त्री.) सुन्दरता।

मनोहरा-(सं.स्त्री.) मनोहर स्त्री, सोनजूही का फूल, एक अप्सरा का नाम।

मनोहरी-(हिं. स्त्री.) कान में पहनने की छोटी वाली।

मनोहारी-(सं.वि.) मनोहर, चित्ताकर्षक।

मनोह्लाद-(सं. पुं.) चित्त की प्रसन्नता।

मनौती-(हिं. स्त्री.) असन्तुष्ट को सन्तुष्ट करना, किसी देवी-देवता की कार्य-सिद्धि होने पर पूजा करने का संकल्प।

मन्नत-(हिं. स्त्री.) किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिये किसी देवी-देवता की पूजा आदि करने की प्रतिज्ञा, मानता, मनौती; (मुहां.)-**उतारना-**किसी मन्नत को पूरी करना; -**मानना-**कोई मनोरथ पूरा होने के लिये देवी-देवता की पूजा करने की प्रतिज्ञा करना।

मन्ना-(हिं. पुं.) एक प्रकार का मीठा नियास जो अनेक वृक्षों से निकलता है, (यह औषधियों में प्रयुक्त होता है।)

मन्मथ-(सं. पुं.) कामदेव, कैथ का वृक्ष, काम वासना।

मन्मथालय-(सं.पुं.) प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का स्थान।

मन्मन-(सं. पुं.) गद्गदवाणी, कान में गुप्त बात कहना।

मन्य-(सं. वि.) मननीय, मानने योग्य।

मन्या-(सं. स्त्री.) गरदन के पिछले भाग की एक शिरा का नाम।

मन्यु-(सं. पुं.) कार्य, स्तोत्र, शोक, यज्ञ, क्रोध, दीनता, शिव, अहंकार, अग्नि।

मन्वन्तर-(सं.पुं.) युग, (द्वैत-युग का एक सहस्र युग ब्रह्मा का एक दिन होता है। (इसी एक दिन का नाम मन्वन्तर है जो गणना करने से तीस करोड़, सड़सठ लाख, बीस हजार वर्ष होता है।)

मन्वाद्य-(सं. पुं.) धान्य, धन।

मम-(सं. सर्व.) मेरा या मेरी।

ममता-(सं. स्त्री.) 'यह मेरा है' इस प्रकार का भाव, ममत्व, अपनापन, लोभ, मोह, अभिमान, गव, स्नेह, प्रेम, माता का अपनी सन्तान पर स्नेह।

ममत्व-(सं.पुं.) ममता, स्नेह, अभिमान, गर्व।

मंमरंखी-(हिं. स्त्री.) वधावा।

ममरी-(हिं. स्त्री.) वनतुलसी, दीना।

ममाखी-(हिं. स्त्री.) मधुमक्खी।

ममिया-(हिं. वि.) जो सम्बन्ध या नाते में मामा के कुल का हो, यथा; -ममिया ससुर, सास आदि।

ममियाउर, ममियोरा-(हिं. पुं.) मामा का घर।

ममी-(पुं.) मिस्र देश का प्रसिद्ध मृत मनुष्य का सुरक्षित प्राचीन शव।

मयंक-(हिं. पुं.) देखें 'मृगांक', चन्द्रमा।

मयंद-(हिं. पुं.) देखें 'मृगेंद्र', शेर।

मयंदी-(हिं. स्त्री.) गाड़ी के पहिये के चक्के पर लगाई जानेवाली लोहे की सामी।

मय-(सं. पुं.) दिति के पुत्र का नाम, एक प्रसिद्ध दानव, एक देश का नाम, अश्व, घोड़ा, खच्चर, चिकित्सक, वैद्य; (हिं. प्रत्य.) तद्धित का एक प्रत्यय जो तद्रूप, विकार तथा प्राचुर्य के अर्थों में संज्ञाओं के अन्त में लगाया जाता है; यथा-आनन्दमय।

मयगल-(हिं. पुं.) मस्त हाथी।

मयट-(सं. पुं.) पर्णशाला, झोपड़ी।

मयन-(सं. पुं.) मधु, मक्खी का छत्ता; (हिं. पुं.) मदन, कामदेव।

मयमंत, मयमत्त-(हिं. वि.) मदनोत्त, मस्त।

मयमुता-(सं. स्त्री.) मन्दोदरी।

मया-(हिं. स्त्री.) देखें 'माया'।

मयार-(हिं. वि.) कृपालु, दयावान्।

मयारी-(हिं. स्त्री.) वह धरन जिससे हिंडोले की रस्सी लटकाई जाती है, छाजन की धरन जिस पर बँडर रखा जाता है।

मयु-(सं. पुं.) किलर, मृग; -राज-(पुं.) कुबेर।

मयूक-(सं.पुं.) मयूर, मोर।

मयूख-(सं. पुं.) रश्मि, किरण, प्रकाश, ज्वाला, पर्वत।

मयूखी-(सं. पुं.) भारत के प्राचीन आर्यों का एक प्रकार का अस्त्र।

मयूर-(सं.पुं.) शिखी, वहाँ, मोर; -गति-(स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में चौबीस अक्षर होते हैं; -ग्रीवक-(पुं.) तुल्य, तृतिया; -ध्वज-(पुं.) एक पुराण-वर्णित प्राचीन राजा जिसकी राजधानी रत्नपुरी थी; -पुच्छ-(पुं.) मोर की पूँछ, चन्द्रिका; -रथ, -वाहन-(पुं.) स्कन्ध, कातिकेय; -शिखा-(स्त्री.) शिखालु, एक पौधा; -सारणी-(स्त्री.) एक छन्द का नाम जिसके प्रत्येक चरण में तेरह वर्ण होते हैं।

मयूरा-(सं.स्त्री.) काली तुलसी, अजमोदा।

मयूरासन-(सं. पुं.) शाहजहाँ का वन-वाया हुआ मयूर के आकार का प्रसिद्ध रत्नजटित सिंहासन।

मयूरिका-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का विषैला कीड़ा।

मयूरी-(सं. स्त्री.) मोरनी।

मयोभव-(सं. पुं.) शिव, महादेव।

मरंद-(हिं. पुं.) देखें 'मकरंद'।

मरक-(हिं. स्त्री.) आँख से संकेत करना, (पुं.) महामारी, मृत्यु, मरण।

मरकट—(हिं. पुं.) देखें 'मर्कट' ।
 मरकत—(सं. पुं.) पत्रा नाम का रत्न ।
 मरकना—(हिं. क्रि. अ.) दवाव पड़कर टूट जाना, मुरकना ।
 मरकहा—(हिं. वि., पुं.) जो पशु सींग से मारता हो, सींग से मारनेवाला ।
 मरकाना—(हिं. क्रि. स.) दवाकर चूरचूर करना, मुरकाना ।
 मरकोटी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मिठाई ।
 मरखन्ना—(हिं. वि.) देखें 'मरकहा' ।
 मरगजा—(हिं. वि.) मसला हुआ, गीजा हुआ ।
 मरघट—(हिं. पुं.) शव को जलाने का स्थान, श्मशान; (वि.) कुल्प और विकराल आकृति का, जो सदा उदास रहता है, मनहूस ।
 मरचोवा—(हिं. पुं.) एक प्रकार की तरकारी ।
 मरजाद, मरजादा—(हिं. स्त्री.) मर्यादा, रीति, परिपाटी, सोमा, हृद, आदर, सत्कार. प्रतिष्ठा ।
 मरजिया—(हिं. वि.) मरकर जीनेवाला, जो प्राण देने को उद्यत हो, मरनेवाला, मृतप्राय, अधमरा ।
 मरजी—(अ. स्त्री.) खुशी, इच्छा, रचि ।
 मरजीवा—(हिं. पुं.) देखें 'मरजिया' ।
 मरण—(सं. पुं.) मृत्यु, पंचतत्त्व ।
 मरणांत—(सं. अव्य.) मरण पर्यन्त, मृत्यु तक ।
 मरणोत्तर—(सं. वि.) मृत्यु के बाद का ।
 मरत—(हिं. पुं.) मरण, मृत्यु ।
 मरतवान—(हिं. पुं.) देखें 'अमृतवान' ।
 मरद—(हिं. पुं.) देखें 'मद'; -ई—(स्त्री.) साहस, वीरता, पराक्रम ।
 मरदना—(हिं. क्रि. स.) मर्दन करना, मसलना, तर करना, गूथना, माँड़ना; (पुं.) शरीर में तेल लगानेवाला सेवक ।
 मरन—(हिं. पुं.) देखें 'मरण' ।
 मरना—(हिं. क्रि. अ.) मृत्यु को प्राप्त होना, बहुत दुःख सहना, कुम्हलाना, मुरझाना, सूख जाना, लज्जा आदि के कारण मस्तक न उठा सकना, वेग का कम होना, रोना, पछतावा करना, डाह करना, जलना, वशीभूत होना, हारना; (मुहा.) किसी पर मरना—आसक्त होना; मर मिटना—परिश्रम करते-करते शक्तिहीन हो जाना; मरा जाना—व्याकुल होना, रीझना; पानी मरना—नींव या भीत में पानी घँसना, दुर्गम होना ।
 मरनी—(हिं. स्त्री.) मृत्यु, दुःख, कष्ट, वह शोक जो किसी के मरने पर उसके संबंधियों को होता है, मृत्यु-संबंधी कृत्य ।
 मरभुखा—(हिं. वि.) भूखा मरता, भुखड़,

दरिद्र ।
 मरम—(हिं. पुं.) देखें 'मर्म' ।
 मरमर—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बहुत चिकना पत्थर ।
 मरमरा—(हिं. पुं.) एक पक्षी का नाम, थोड़ा खारा पानी; (वि.) सहज में टूटनेवाला ।
 मरमराना—(हिं. क्रि. अ.) वृक्ष की शाखा का दवाव पाकर मरमर शब्द करना ।
 मरम्मत—(अ. स्त्री.) टूटी-फूटी चीज को बनाना या बनवाना, सुधार; (हिं. स्त्री.) मार, पिटाई ।
 मरम्मती—(अ. वि.) मरम्मत-संबंधी ।
 मरवट—(हिं. स्त्री.) वह निःशुल्क जागीर, भूमि जो सैनिक के मारे जाने पर राज्य द्वारा उसके बाल-बच्चों को दी जाती है ।
 मरवा—(हिं. पुं.) देखें 'मरुआ' ।
 मरवाना—(हिं. क्रि. स.) बच कराना, मारने के लिये दूसरे को प्रवृत्त करना ।
 मरसा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का साग ।
 मरहट—(हिं. पुं.) मरघट, श्मशान, मसान ।
 मरहटा—(हिं. पुं.) महाराष्ट्र देश का निवासी, उनतीस मात्राओं के एक छन्द का नाम ।
 मरहठा—(हिं. पुं.) महाराष्ट्र देशवासी, महाराष्ट्री, मराठा ।
 मरहठी—(हिं. वि.) महाराष्ट्र-संबंधी; (स्त्री.) वह भाषा जो महाराष्ट्र देश में बोली जाती है, मराठी ।
 मर(ल)हम—(अ. पुं.) घाव पर लगाने का लेप; -पट्टी—(स्त्री.) घाव पर मरहम लगाकर पट्टी बाँधना ।
 मराठा—(हिं. पुं.) महाराष्ट्र देश का निवासी ।
 मराठी—(हिं. स्त्री.) मराठी की भाषा; (पुं.) महाराष्ट्र का निवासी; (वि.) मराठा-संबंधी ।
 मराना—(हिं. क्रि. स.) मारने के लिये प्ररणा करना, मरवाना ।
 मराधल—(हिं. वि.) जिसने कई बार मार खाई हो निर्भीक, निर्भीक, निःसत्त्व; (पुं.) घाटा ।
 मराधु—(सं. वि.) मरणशील, मरनेवाला ।
 मराल—(सं. पुं.) राजहंस, काजल, वादल, घोड़ा, हाथी, एक प्रकार की वत्ख, खल, दुष्ट; (वि.) चिकना ।
 मरिद—(हिं. पुं.) देखें 'मरिद', मरंद ।
 मरिच—(सं. पुं.) गोलमिर्च ।
 मरिचा—(हिं. पुं.) लाल बड़ा मिरचा ।
 मरियल—(हिं. वि.) कमजोर, निर्बल, बहुत दुबला-पतला ।

मरिया—(हिं. स्त्री.) खाट के पैताने में कथने की रस्सी ।
 मरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'महामारी', एक संक्रामक रोग जिससे अनक मनुष्यों की एक साथ मृत्यु होती है ।
 मरोचि—(सं. पुं.) एक ऋषि जो पुराणों में ब्रह्मा के मानस पुत्र तथा एक प्रजापति माने गये हैं, (यह सप्तपियों में एक है), मनु के एक पुत्र का नाम, एक मुनि का नाम जो भृगु के पुत्र और कश्यप के पिता थे; (स्त्री.) एक अप्सरा का नाम, किरण, कान्ति, ज्योति; -गर्म—(पुं.) सूर्य; -जल—(पुं.) मृगतृष्णा; -माली—(पुं.) सूर्य या चन्द्रमा ।
 मरोचिका—(सं. स्त्री.) मृगतृष्णा, मरु-भूमि में जल का आभास, किरण ।
 मरीची—(सं. पुं.) सूर्य, चन्द्रमा; (वि.) किरणयुक्त ।
 मरीना—(हिं. पुं.) एक प्रकार का कोमल तथा पतला ऊनी वस्त्र जो विलायती भेड़ के ऊन से तैयार किया जाता है ।
 मरुंडा—(सं. स्त्री.) ऊँचे ललाट की स्त्री ।
 मरु—(सं. पुं.) मरुभूमि, निर्जल प्रदेश, मारवाड़ और उसके आसपास के देश का नाम, एक दैत्य का नाम ।
 मरुआ—(हिं. पुं.) वनतुलसी या बवंरी की जाति का एक पौधा जो बागों में लगाया जाता है, (इसमें सफेद फूल लगते हैं), पत्थर या लकड़ी का छोटा खंभा, बँडेर, हिंडोला लटकाने की लकड़ी ।
 मरुकांतर—(सं. पुं.) बाल का भू-भाग ।
 मरुज—(सं. वि.) मरुभूमि में होनेवाला ।
 मरुजाता—(सं. पुं.) केवाँच, कौंच ।
 मरुत्—(सं. पुं.) वायु, हवा, एक देवगण का नाम, प्राण, सुवर्ण, सोना, देवता विशेष; -कर्म—(पुं.) पेट फूलना, हवा निकलना; -क्रिया—(स्त्री.) अधोवासु का निकलना, पादना; -पति—(पुं.) इन्द्र; -पय—(पुं.) आकाश; -पाल—(पुं.) इन्द्र; -पुत्र—(पुं.) भीमसेन; -वान्—(पुं.) इन्द्र, हनुमान, देवताओं का एक गण; -सहाय—(पुं.) अग्नि, आग; -सुत—(पुं.) हनुमान, भीम ।
 मरुयल—(हिं. पुं.) देखें 'मरुस्थल' ।
 मरुदेश—(सं. पुं.) मरुभूमि, मारवाड़ देश ।
 मरुद्रुम—(सं. पुं.) बबूल का वृक्ष ।
 मरुद्राह—(सं. पुं.) घूमन, घुआँ, अग्नि, आग ।
 मरुद्वीप—(सं. पुं.) मरुभूमि में कहीं-कहीं उपजाऊ तथा हगमरा मैदान ।

मरुद्वेग—(सं. पुं.) वायु का वेग, एक दैत्य का नाम ।
 मरुधर—(सं. पुं.) मारवाड़ देश ।
 मरुप्रिय—(सं. पुं.) उष्ट्र, ऊँट ।
 मरुभूमि—(सं. स्त्री.) विना पेड़-पौधे का तथा जलरहित वाला का विस्तृत-भाग ।
 मरुना—(हि. क्रि. अ., स.) ऐँठना, मरोड़ना, मरोड़ा जाना ।
 मरुवक—(सं. पुं.) तुलसी का छोटा पौधा, मरु का फूल, व्याघ्र; (हि.वि.) भयंकर, डरावना ।
 मरुसा—(हि. पुं.) देखें 'मरसा' ।
 मरुस्थल—(सं. पुं.) मरुभूमि, निर्जल तथा विस्तृत वाला का मैदान ।
 मरुस्थली—(सं. स्त्री.) वर्तमान मारवाड़ प्रदेश का प्राचीन नाम, मरुस्थल ।
 मरु—(हि. वि.) कठिन, कड़ा ।
 मरुक—(सं. पुं.) मयूर, मोर ।
 मरुद्भवा—(सं. स्त्री.) जवासा, कपास ।
 मरुरा—(हि. पुं.) देखें 'मरोड़' ।
 मरोड़—(हि. पुं.) मरोड़न की क्रिया या भाव, वह पीड़ा जो आँव आदि के कारण उत्पन्न होती है, एठन, घुमाव, पेट की पीड़ा, गव, अहकार, घमंड, क्रोध, रोष; (मुहा.)—की बात-फेरवट की बात-चीत; —खाना-कण्ट में पड़ जाना ।
 मरोड़ना—(हि. क्रि. अ., स.) ऐँठना, वल डालना, एठकर खराब करना, पीड़ा उत्पन्न करना, मलना, मसलना, ऐँठकर मार डालना; (मुहा.) भौंह मरोड़ना—भौंह चढ़ाना, सैन करना; नाकभौंह सिकोड़ना; हाथ मरोड़ना—पछताना ।
 मरोड़फली—(हि. स्त्री.) मुरा नामक औषधि ।
 मरोड़ा—(हि. पुं.) ऐँठन, उमेठन, पेट की पीड़ा जिसमें एठन जान पड़ती है ।
 मरोड़ी—(हि. स्त्री.) एठन, घुमाव, गाँठ, गुथी; (मुहा.)—करना—खीचा-खींची करना ।
 मरोर—(हि. पुं.) पछतावा, मरोड़ ।
 मरोरि—(सं. पुं.) मगर की जाति का एक समुद्री जन्तु ।
 मरुं—(सं. पुं.) शरीर, देह, वायु, हवा, वन्दर, ब्रह्मचार्य के एक पुत्र का नाम ।
 मरुकं—(सं. पुं.) मकड़ा, हड़गीला नामक पक्षी ।
 मरुकंठ—(सं. पुं.) वन्दर, मकड़ा, अजमोदा, तड़गीला पक्षी, दोहे का एक भेद, छपय छन्द का एक भेद; —फ—(पुं.) मरुड़ा, एक दैत्य का नाम; —पाल—(पुं.) वन्दरों का राजा, सुभ्रिय;

—पिप्पली—(स्त्री.) अपामार्ग, चिचड़ा;
 —प्रिय—(पुं.) खिरनी का पेड़; —वास—(पुं.) मकड़ी का जाला ।
 मरुंटी—(सं. स्त्री.) कौंच, केंवाच, अपामार्ग, चिचड़ा, अजमोदा, वंदरी, करंज, मकड़ी, छन्द के नौ प्रत्ययों में से अन्तिम प्रत्यय जिसके द्वारा मात्रा के प्रस्तार में छन्द के लघु-गुरु आदि का तथा वर्णों की संख्या का ज्ञान होता है ।
 मरुंत—(सं. पुं.) देखें 'मरकत' ।
 मरुंकर—(सं. पुं.) भृंगराज, भृंगरैया ।
 मरुंकरा—(सं. स्त्री.) मुईहरा, सुरंग, भाण्ड, वरतन, वाँझ स्त्री ।
 मरुंजी—(हि. स्त्री.) इच्छा, मरजी ।
 मरुंतवान—(हि. पुं.) रंग चढ़ाया हुआ मिट्टी का पात्र जिसमें अचार, मुरब्बा आदि रखा जाता है, अमृतवान ।
 मरुंत्य—(सं. पुं.) भूलोक, मनुष्य, शरीर, देह; (वि.) मरणशील; —ता—(स्त्री.) मरुंत्य या नश्वर का भाव या धर्म; —त्व—(पुं.) मरुंत्यता; —धर्म—(पुं.) मनुष्य का धर्म; —भाव—(पुं.) मनुष्य का स्वभाव, मनुष्यत्व; —भुवन—(पुं.) मनुष्य-लोक; —लोक—(पुं.) मनुष्य-लोक, पृथ्वी ।
 मरुं—(सं. पुं.) भर्दन, कुचलना, वह जो कुंवा जाय; (फा. पुं.) पुरुष, नर ।
 मरुंन—(सं. पुं.) शरीर पर तेल, उबटन आदि मलना, कुचलना, रौंदना, चूण करना, ध्वंस, घोटना, पीसना, मल्ल-युद्ध में एक पहलवान का दूसरे पहलवान की गरदन पर हाथों से घस्सा देना; (वि.) नाश या संहार करनेवाला ।
 मरुंन—(हि. क्रि. स.) मलना, रौंदना, कुचलना, नष्ट करना, उबटन, तेल आदि शरीर पर मलना ।
 मरुंल—(सं. पुं.) प्राचीन काल का मृदंग की तरह का एक वाजा ।
 मरुंनगी—(फा. स्त्री.) पुरुषत्व, वहादुरी ।
 मरुंन—(फा.वि.) पुरुष-संबंधी, पुरुष का ।
 मरुंनित—(सं. वि.) नष्ट किया हुआ, चूर्ण किया हुआ, मला हुआ, मसला हुआ ।
 मरुंन—(सं. पुं.) स्वरूप, रहस्य, तत्त्व, शरीर का सन्धि-स्थान, शरीर में वह कोमल स्थान जहाँ आघात लगने से बहुत पीड़ा होती और कमी-कमी मृत्यु भी हो जाती है, हृदय, संवेद; —ज—(वि.) ममयातक; —च्छिद—(वि.) मर्म को भेदनेवाला; —ज—(वि.) किसी बात का मम या गूढ़ रहस्य जाननेवाला, तत्त्वज्ञ,

भेद की बातों को जाननेवाला; —पारग—(वि.) देखें 'ममज्ञ'; —भेदक—(वि.) हृदय को अधिक कष्ट पहुँचानेवाला; —भेदन—(वि., पुं.) मर्मभेदक, अस्त्र; —भेदी—(वि.) हृदय को कष्ट पहुँचानेवाला, हार्दिक कष्ट देनेवाला; —मय—(वि.) रहस्यपूर्ण; —वचन—(पुं.) मर्मभेदी वात, वह वात जिसकी सुनन से आन्तरिक कष्ट हो; —वाक्य—(पुं.) रहस्य की वात, भेद की अथवा गुप्त वात; —विद्—(वि.) मर्मज्ञ, मर्म को जाननेवाला; —स्थान—(पुं.) शरीर का संवेद-स्थल ।
 मरुंन—(सं. पुं.) कपड़े, पत्ते इत्यादि के हिलने से होनेवाला मरमर शब्द ।
 मरुंनरीक—(सं. वि.) दीन, दुखिया ।
 मरुंनतक—(सं. वि., पुं.) मम को स्पश करने वाला, क्लेश, हृदय में चुभनेवाला दुःख ।
 मरुंनन्वीषी—(हि. वि.) गूढ़ रहस्य की खोज करनेवाला ।
 मरुंन—(सं. वि.) मर्मविद्, मर्मज्ञ ।
 मरुंनदा—(हि. स्त्री.) देखें 'मरुंनदा', रीति, प्रथा, चाल, विवाह में दिया जानेवाला एक भोज, ज्योतार या बड़हार की रीति ।
 मरुंनदक—(सं. वि.) माननीय ।
 मरुंनदा—(सं. स्त्री.) न्याय-पक्ष की स्थिति, धर्म, परंपरा आदि द्वारा निर्धारित सीमा, मान, गौरव, सदाचार, नियम, सीमा, नदी का किनारा ।
 मरुंनदाबंध—(हि. पुं.) मरुंनदा की रक्षा ।
 मरुंनदी—(सं. वि.) मरुंनदापूर्ण ।
 मरुंनर्षण—(सं. पुं.) क्षमा, शांति, धैर्य ।
 मरुंनर्षीय—(सं. वि.) क्षमा करने योग्य ।
 मरुंन—(सं. पुं.) पाप, विष्ठा, पुरीष, कीट, मैल, वात, पित्त, कफ, प्रकृति का दोष, दूषण, विकार, शरीर के अंगों से निकलनेवाला मैल ।
 मरुंनकना—(हि. क्रि. अ.) हिलना-डोलना, इतराना ।
 मरुंनकरन—(हि. पुं.) नक्काशी करने का एक अस्त्र ।
 मरुंनका—(हि. स्त्री.) सम्राट् की पटरानी ।
 मरुंनकाना—(हि. क्रि. स.) हिलाना-डोलाना, आँख मटकाना ।
 मरुंनखंभ, मरुंनखम—(हि. पुं.) चार-पाँच हाथ लंबा लकड़ी का मोटा डंडा जो भूमि में गाड़ा रहता है अथवा छत में लगा रहता है जिस पर अनेक प्रकार का व्यायाम किया जाता है, इस पर का व्यायाम, लकड़ी का खूँटा जो पत्थर के कोल्हू में लगा होता है ।

मलखाना—(हि. पुं.) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहनेवाली एक राजपूत जाति जो मुसलमानी राज्य में मुसलमान बन गई थी, परन्तु अब हिन्दू हो गई है; (वि.) मल खानेवाला।

मलग—(सं. पुं.) रजक, घोड़ी।

मलगजा—(हि. पुं.) वसन में लपेटकर तेल या घी में छाने हुए बैंगन के पतले टुकड़।

मलगिरी—(हि. पुं.) एक प्रकार का हलका कत्यई रंग।

मलघन—(हि. पुं.) एक प्रकार का कचनार।

मलघन—(सं. पुं.) समल का मूसल; (वि.) मलनाशक।

मलघनी—(सं. स्त्री.) नागदौना।

मलज—(सं. वि.) मल से उत्पन्न; (पुं.) पीव।

मलझन—(हि. पुं.) एक प्रकार की लता।

मलता—(सं. स्त्री.), मलत्व—(सं. पुं.) मैला होने का भाव या अवस्था।

मलह्वित—(सं. वि.) मलिन, मैला।

मलद्वार—(सं. पुं.) शरीर की वे इन्द्रियाँ जिससे मल निकलते हैं, गुदा।

मलधात्री—(सं. स्त्री.) वच्चों का मल-मूत्र धोनेवाली घाय।

मलन—(सं. पुं.) पीतना, लगाना, तंबू।

मलना—(हि. क्रि. स.) हथेलियों से किसी वस्तु को रगड़ना, ऐंठना, मरोड़ना, मालिश करना, दवाना, मसलना, मींजना, तेल आदि लगाना; (मुहा.) हाथ मलना—पछताना।

मलनी—(हि. स्त्री.) कुम्हार का पात्र चिकनाने का एक उपकरण।

मलया—(हि. पुं.) कतवार, कूड़ा-करकट, गिरे हुये वरों की ईंट, पत्थर, चूना आदि।

मलभुज—(सं. पुं.) मल खानेवाला जन्तु।

मलमल—(हि. स्त्री.) महीन सूत से बुना हुआ सफेद और पतला कपड़ा।

मलमला—(हि. पुं.) कुलफ का साग।

मलमलाना—(हि. क्रि. स.) वारंवार पलकों को खोलना तथा मूंदना, वारंवार आलिंगन करना, पछतावा करना।

मलमा—(हि. पुं.) देखें 'मलवा'।

मलमास—(सं. पुं.) अधिक मास जो प्रति तीसरे वर्ष होता है, पुरुषोत्तम मास।

मलय—(सं. पुं.) मलावार प्रदेश का पर्वत, सफेद चन्दन, लष्पय का एक भेद, नन्दन-वन, गरुड़के एक पुत्र का नाम, मलय देश, यहाँ का रहनेवाला मनुष्य; -गंधिनी—(स्त्री.) उमा की एक सखी का नाम;

-गिरि—(पुं.) मलयाचल पर्वत जो भारत के दक्षिण में है, मलयगिरि में

उत्पन्न चन्दन, हिमालय पर्वत के पूर्व का भाग जहाँ आसाम है; -जं—(पुं.) चन्दन, राहु; (वि.) जो मलयगिरि पर होता हो।

मलयागिरि—(हि. पुं.) देखें 'मलयगिरि'।

मलयाचल—(सं. पुं.) मलय पर्वत।

मलयानिल—(सं. पुं.) मलय पर्वत से आनेवाली वायु, वसन्त काल की हवा।

मलयाली—(हि. वि.) मलावार देश-संबंधी, मलावार देश में उत्पन्न; (पुं.) मलावार का निवासी; (स्त्री.) मलावार देश की भाषा।

मलयुग—(सं. पुं.) कलियुग।

मलश्चि—(सं. वि.) पापमय चित्त का, पापी।

मलरोधक—(सं. वि.) मल का रूकाव करनेवाला।

मलवा—(हि. पुं.) बरमा देश में होनेवाला एक वृक्ष।

मलवाना—(हि. क्रि. स.) मलने का काम दूसरे से कराना।

मलवेग—(सं. पुं.) अतिसार रोग।

मलशुद्धि—(सं. स्त्री.) पेट की शुद्धि।

मलसा—(हि. पुं.) घी रखने का चमड़े का कुप्पा।

मलसी—(हि. स्त्री.) मुसलमानों का खाना पकाने का मिट्टी का पात्र।

मलहारक—(सं. वि.) पाप हरनेवाला।

मला—(सं. स्त्री.) मुँहआमला, आमा-हल्दी, चमड़ा, कसकुट, विच्छू का डंक।

मलाई—(हि. स्त्री.) दूध की साड़ी, सार-तत्त्व, रस, हलका वादामी रंग, मलन की क्रिया या भाव, मलने का शूलक।

मलाका—(सं. स्त्री.) कामिनी स्त्री, वैश्या।

मलाट—(हि. पुं.) एक प्रकार का भूरे रंग का घटिया मोटा कागज जो कागज की गड़ियों पर लपेटने के काम में आता है।

मलान—(हि. वि.) देखें 'म्लान'।

मलानि—(हि. स्त्री.) देखें 'म्लानि'।

मलापह—(सं. वि.) मल को दूर करनेवाला।

मलायन—(सं. पुं.) मलद्वार, गुदा।

मलार—(हि. पुं.) एक राग जो बरसात में गाया जाता है; (मुहा.) -गाना-प्रसन्न होकर कुछ कहना।

मलारी—(हि. स्त्री.) वसन्त राग की एक रागिनी।

मलाल—(अ. पुं.) दुःख, विषाद, प्रतिगोध की भावना।

मलावरोध—(सं. पुं.) कदज।

मलाशय—(सं. पुं.) आंतों का निचला भाग।

मलाह—(हि. पुं.) देखें 'मल्लाह'।

मल्लिद—(हि. पुं.) मोरा।

मल्लिख, मल्लिच्छ—(हि. वि.) देखें 'म्लेच्छ'।

मल्लित—(हि. पुं.) सोनार की गहना स्वच्छ करने की कूची।

मल्लिन—(सं. पुं.) मैली वस्तु, एक प्रकार के साधु जो मैला-कुचैला वस्त्र पहनते हैं, दोष, पाप, मट्ठा, सोहागा, काला अंगर, रत्नों की चमक या रंग का फीका होना; (वि.) मैला, मटमैला, धोमा, फीका, उदासीन; -ता—(स्त्री.), -त्व—(पुं.) कालुष्य, मैल; -मुख—(पुं.) अग्नि, प्रेत, बंदर विजय; (वि.) खिन्न, जिसका मुख उदास हो।

मल्लिना—(सं. स्त्री.) रजस्वला स्त्री, लाल खाँड़।

मल्लिनाई—(हि. स्त्री.) मलिनता, मैल।

मल्लिनाना—(हि. क्रि. अ.) मैला होना।

मल्लिनोकरण—(सं. पुं.) निर्मल वस्तु को मैला करना।

मल्लिया—(हि. स्त्री.) छोटे मुख का मिट्टी का पात्र, चक्कर, घेरा।

मल्लियामेट—(हि. पुं.) सत्यानास।

मल्लिस—(हि. स्त्री.) सोनारों का छनी की तरह का एक औजार।

मल्लिन—(हि. वि.) मैला-कुचैला, उदास।

मल्लिनता—(हि. स्त्री.) देखें 'मलिनता'।

मल्लिमस—(सं. पुं.) पाप, दोष; (वि.) पापयुक्त, मलिन।

मल्लुक—(हि. स्त्री.) उदर, पेट, एक प्रकार का पक्षी।

मल्लू—(हि. स्त्री.) मलघन नामक पीधा।

मल्लुक—(सं. पुं.) एक प्रकार का कौड़ा; (वि.) मनोहर, सुन्दर।

मल्लेक्ष, मल्लेच्छ—(हि. वि.) देखें 'म्लेच्छ'।

मल्ल—(सं. पुं.) एक प्राचीन जाति का नाम, (इस जाति के लोग मल्लयुद्ध में बड़े कुशल होते थे। इसी कारण से कुस्ती को मल्लयुद्ध कहते हैं); पहलवान, पात्र, दीपक, एक वर्णसंकर जाति;

-क—(पुं.) दन्त, दांत; -कौटा—(स्त्री.) मल्लयुद्ध; -राम—(पुं.) देखें 'मल्लराम'; -तरु—(पुं.) पियाल वृक्ष, चिरींजी का पेट; -ताल—(पुं.) संगीत में एक ताल का नाम; -भू,

-भूमि—(स्त्री.) मल्लयुद्ध का स्थान अखाड़ा; -युद्ध—(पुं.) बाहु-युद्ध, कुरती; -बाह—(पुं.) लाल रंग की एक घास; -विद्या—(स्त्री.) मल्लयुद्ध की विद्या; -शाला—(स्त्री.) मल्लभूमि, अनाम।

मल्ला—(सं. स्त्री.) नारी, स्त्री, चमेली; (हिं. पुं.) जुलाहों का एक औजार।
 मल्लार—(सं. पुं.) संगीत शास्त्र के अनुसार एक राग का नाम, मलार।
 मल्लारी—(सं. स्त्री.) वसन्त राग की एक रागिनी।
 मल्लासुर—(सं. पुं.) एक असुर जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था।
 मल्लाह—(अ. पुं.) केवट, माझी।
 मल्लाही—(हिं. वि.) मल्लाह-संबंधी; (स्त्री.) मल्लाह का पेशा, पद, मजूरी आदि।
 मल्लिक—(सं. पुं.) भूस्वामी की एक उपाधि, माघ का महीना, जुलाहों की ढरकी।
 मल्लिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का वेला जिसको मोतिया भी कहते हैं, एक प्रकार का मिट्टी का पात्र, आठ अक्षरों का एक वर्णिक छन्द, सुमुखी-वृत्त का एक नाम, यूथिका, जूही।
 मल्लिकाक्ष—(सं. पुं.) एक प्रकार का हंस।
 मल्लिकामोद—(सं. पुं.) संगीत में एक ताल का नाम।
 मल्लिगंधि—(सं. पुं.) अगरु, अगर।
 मल्लिनी—(सं. स्त्री.) माघवी लता।
 मल्ली—(सं. स्त्री.) सुंदरी वृत्त का एक नाम; -कर—(पुं.) चोरी करनेवाला, चोर।
 मल्लु—(सं. पुं.) मालू, बंदर।
 मल्लू—(हिं. पुं.) बंदर।
 मल्व—(सं. पुं.) शत्रु।
 मल्हनी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की नाव जिसका अगला भाग अधिक चौड़ा होता है।
 मल्हराना, मल्हराना—(हिं. क्रि. स.) चुमकारना, पुञ्जकारना।
 मल्हार—(हिं. पुं.) देखें 'मल्लार'।
 मवाद—(अ. पुं.) पीव।
 मवास—(हिं. पुं.) आश्रय, शरण, रक्षा-स्थान, दुर्ग।
 मवासी—(हिं. स्त्री.) गद्दी; (पुं.) गढ़-पति, प्रधान पुरुष, मुखिया।
 मवेशी—(हिं. पुं.) गाय-बैल आदि, ढोर; -खाना—(पुं.) मवेशी रखने का वाड़ा।
 मश—(सं. पुं.) क्रोध, मच्छड़।
 मशक—(सं. पुं.) मच्छड़, मससा नाम का चर्म-रोग।
 मशकहरी—(सं. स्त्री.) मसहरी।
 मशकत—(अं. स्त्री.) श्रम, मेहनत।
 मशकती—(अ. वि.) मेहनती।
 मशहर—(अ. वि.) प्रसिद्ध, नामी।
 मशाल—(अ. स्त्री.) लकड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेटकर जलायी जानेवाली दीप-जिज्ञा; -ची—(पुं.) मशाल जलानेवाला।

मशीन—(अं. स्त्री.) यंत्र, कल।
 मष—(हिं. पुं.) देखें 'मख'।
 मषि—(सं. स्त्री.) काजल, सुरमा, स्याही।
 मष्ट—(हिं. वि.) जो मूल गया हो, उदासीन, मौन, चुप रहनेवाला; (मुहा.) -मारना—मौन धारण करना।
 मस—(हिं. स्त्री.) देख 'मसि', रोशनाई, मूँछ निकलने के पहिले ओंठ पर का कालापन; (मुहा.) मसैं भींगना—मोँछ निकलना आरंभ होना।
 मसक—(सं. पुं.) मशक, मच्छड़; (हिं. पुं.) मसकने की क्रिया।
 मसकत—(हिं. स्त्री.) परिश्रम।
 मसकना—(हिं. क्रि. अ., स.) खिंचाव या दबाव के कारण कपड़े का इस प्रकार फटना कि उसकी बुनावट के सूत टूटकर अलग हो जायें, किसी पदार्थ में दरार पड़ जाना, बलपूर्वक दबाना या मलना, चिन्तित होना, चित्त का मसोसना।
 मसकरा—(हिं. वि.) देखें 'मसखरा'।
 मसकली—(हिं. स्त्री.) सिकली करने का यंत्र।
 मसखरा—(अ. वि.) हँसोड़, मजाकिया।
 मसजिद—(अ. स्त्री.) मुसलमानों का पूजास्थान।
 मसखवा—(हिं. वि. पुं.) मांसाहारी, मांस खानेवाला।
 मसड़ी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की चिड़िया।
 मसनद—(हिं. पुं.) बड़ा तकिया।
 मसना—(हिं. क्रि. स.) मसलना, गूँधना।
 मसयारा—(हिं. पुं.) मशाल।
 मसलना—(हिं. क्रि. स.) हाथ से दवाते हुए रगड़ना, मलना, आटा गूँथना, बलपूर्वक दबाना।
 मसवई—(हिं. स्त्री.) वबूल या किसी अन्य वृक्ष का गोंद।
 मसवारा—(हिं. पुं.) प्रसूता स्त्री का प्रसव के एक महीने के बाद का स्नान।
 मसवासी—(हिं. पुं.) वह साधु या वैरागी जो एक महीने से अधिक एक स्थान में न रहे, वह स्त्री जो एक महीने से अधिक किसी पुरुष के पास न रहे, गणिका, वेश्या।
 मसहरी—(हिं. स्त्री.) छिद्रित या जालीदार कपड़े का बना हुआ परदा जो मच्छरों से बचने के लिये पलंग के चारों ओर लटकाया जाता है, वह पलंग जिसमें ऐसा जालीदार परदा लटकाने के लिये डंडे लगे हों।
 मसहार—(हिं. पुं.) मांसाहारी, मांस खानेवाला।
 मसा—(हिं. पुं.) शरीर के किसी भाग पर

काले रंग का उमड़ा हुआ मांस का काला दाना, ववासीर रोग में गुदा के भीतर या मुँह पर निकलनेवाला मांस का दाना, मच्छड़, मसक।
 मसान—(हिं. पुं.) शव को जलाने का स्थान, मरघट, रणभूमि; मूत, प्रेत, पिचाश आदि; (मुहा.) -जगाना—तन्त्रोक्त विधि से मरघट में बैठकर मंत्र सिद्ध करना।
 मसानिया—(हिं. पुं.) मसान का डोम।
 मसानी—(हिं. स्त्री.) मरघट में रहनेवाली डाकिनी, पिशाचिनी आदि।
 मसार—(सं. पुं.) नीलमणि, नीलम; (हिं. वि.) स्निग्ध, गीला।
 मसाल, मसालची—(हिं. पुं.) देखें 'मशाल', 'मशालची'।
 मसाला—(हिं. पुं.) किसी पदार्थ को तैयार करने के लिये आवश्यक सब सामग्री, घनिया, मिर्च, लौंग आदि, साधन, औषधियों का अथवा रासायनिक द्रव्यों का वर्ग।
 मसि—(सं. स्त्री.) लिखने की रोशनाई, काजल, कालिख।
 मसिक—(सं. पुं.) सर्प का विल।
 मसिधान, मसिधानी—(हिं. पुं., स्त्री.) दावात।
 मसिपात्र—(सं. पुं.) देख 'मसिधानी'।
 मसिबुंदा—(हिं. पुं.) दिठौना।
 मसिमुख—(हिं. वि.) जिसके मुँह में कालिख लगी हो, पापी, कुकर्मी।
 मसियर—(हिं. पुं.) मशाल।
 मसियाना—(हिं. क्रि. अ.) पूरा हो जाना।
 मसियारा—(हिं. पुं.) मशालची।
 मसिल—(हिं. पुं.) देख 'मैनसिल'।
 मसिबिबु—(हिं. पुं.) काजल का बूँदा जो कुदृष्टि से बचने के लिये बच्चों के माथे पर लगाया जाता है, दिठौना।
 मसी—(हिं. स्त्री.) काली स्याही।
 मसीका—(हिं. पुं.) एक माशे का मान।
 मसीत, मसीद—(हिं. स्त्री.) मसजिद।
 मसीना—(सं. स्त्री.) तीसी।
 मसुर—(सं. पुं.) मसूर।
 मसू—(हिं. स्त्री.) कठिनता, कठिनाई।
 मसूड़ा—(हिं. पुं.) मुख के भीतर का वह मांस जिसमें दाँत होते हैं।
 मसूर—(सं. पुं.) एक प्रकार का चिपटा अन्न जिसकी दाल गुलाबी रंग की होती है।
 मसूरा—(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी, मसूर कौ वनी हुई बरी; (हिं. पुं.) देखें 'मसूड़ा'।
 मसूरिका—(सं. स्त्री.) कुटनी, शीतला रोग, चेचक।
 मसूरी—(सं. स्त्री.) मसूरिका, चेचक।

मसूल—(हि. पुं.) देखें 'महसूल'।
 मसूला—(हि. पुं.) एक प्रकार की पतली लंबी नाव।
 मसूसना—(हि. क्रि. अ.) मसोसना निचोड़ना, ऐंठना, चित्त के किसी उद्वेग को रोकना, मन ही मन कुड़ना।
 मसूण—(सं. वि.) चिकना, कोमल।
 मसेवरा—(हि. वि.) मांस का बना हुआ खाने का पदार्थ।
 मसोड़ा—(हि. पुं.) सोना, चाँदी आदि गलाने की धरिया।
 मसोसना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'मसूसना'।
 मस्करा—(हि. पु.) ठठोल।
 मस्कारी—(हि. स्त्री.) हँसी, ठिठोली, मजाक।
 मस्खरा—(हि. पुं.) देखें 'मस्करा'।
 मस्जिद—(हि. स्त्री.) देखें 'मसजिद'।
 मस्त—(हि. वि.) नशे में चूर, मतवाला, मत्त, बेफिक्र।
 मस्तक—(सं. पुं.) मुण्ड, सिर, माथा।
 मस्तरी—(हि. स्त्री.) घातुगलान की भट्टी।
 मस्ताना—(हि. वि.) मस्त।
 मस्तिष्क—(सं. पुं.) मस्तक के भीतर का गुदा, भेजा।
 मस्ती—(हि. स्त्री.) मस्त होने का भाव, अवस्था आदि।
 मस्तूरी—(हि. स्त्री.) घातुगलानेकी भट्टी।
 मस्तूल—(हि. पुं.) जहाज, नाव आदि के बीच में पाल टांगने के लिए गाड़ा हुआ लंबा बल्ला।
 मस्सा—(हि. पुं.) देखें 'मसा'।
 महँ—(हि. अव्य.) में।
 महँई—(हि. वि.) देखें 'महान्', भारी; (अव्य.) देखें 'महँ'।
 महक, महकना—(हि. स्त्री., क्रि. अ.) देखें 'महक', 'महकना'।
 महंगा—(हि. वि.) अधिक मूल्य पर विकनेवाला, जिसका मूल्य साधारण या उचित की अपेक्षा अधिक हो; -ई—(स्त्री.) देखें 'महँगी'।
 महँगी—(हि. स्त्री.) महँगा होने का भाव, महँगापन, महँगा होने की अवस्था, अकाल, दुर्मिष।
 महँडा—(हि. पुं.) भूना हुआ चना।
 महँत—(हि. पुं.) किसी मठ का अधिष्ठाता, साधुओं का मुखिया; (वि.) श्रेष्ठ, प्रधान।
 महँती—(हि. स्त्री.) महँत का भाव या पद।
 महँदी—(हि. स्त्री.) देखें 'महँदी'।
 महँ—(हि. अव्य.) देखें 'महँ'; (सं. पुं.) उत्सव,

यज्ञ, मंस; (हि. वि.) महत्, बड़ा; अधिक।
 महक—(हि. स्त्री.) गन्ध, वास; -दार—(वि.) जिसमें महक हो, महकनेवाला।
 महकना—(हि. क्रि. अ.) गन्ध निकलना।
 महकान—(हि. स्त्री.) देखें 'महक'।
 महकाली—(हि. स्त्री.) पावती।
 महकौला—(हि. वि.) सुगन्धित, महकदार।
 महचक्र—(हि. पुं.) सूर्य।
 महज—(अ. वि.) निरा, केवल।
 महजित—(हि. स्त्री.) देखें 'मसजिद'।
 महण—(हि. पुं.) समुद्र।
 महत—(हि. पुं.) देख 'महत्त्व'।
 महतवान—(हि. पुं.) करषे के पीछे की ओर लगी हुई खेती।
 महता—(हि. पुं.) सरदार, गाँव का मुखिया, मुंशी; (स्त्री.) गर्व, अभिमान।
 महतारी—(हि. स्त्री.) माता, मा।
 महती—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की वीन, नारद की वीणा का नाम, महत्त्व, महिमा, योनि का एक रोग, वैश्यों की एक जाति; -द्वादशी—(स्त्री.) नाद्रपद शुक्ला द्वादशी, (यदि उस दिन श्रवण नक्षत्र पड़ता हो।)
 महतु—(हि. पुं.) देख 'महत्त्व'।
 महती—(हि. पुं.) गयावाल पंडों की एक उपाधि, सरदार, चौधरी।
 महतु—(सं. वि.) बृहत्, विपुल, विस्तीर्ण, सर्वश्रेष्ठ; (पुं.) दर्शन के अनुसार प्रकृति का पहला विकार जिससे जगत् की उत्पत्ति हुई है, राज्य, ब्रह्म, जल।
 महत्कथ—(सं. वि.) चापलूस।
 महत्तत्त्व—(सं. पुं.) सांख्य के अनुसार चौबीस तत्त्वों में से दूसरा तत्त्व, बुद्धितत्त्व, जीवात्मा।
 महत्तम—(सं. वि.) सब से बड़ा या श्रेष्ठ।
 महत्तर—(सं. वि.) दो पदार्थों आदि में बड़ा या श्रेष्ठ।
 महत्त्व—(सं. पुं.) श्रेष्ठता, उत्तमता, अधिकता, बड़प्पन।
 महदाशा—(सं. स्त्री.) ऊँची भाकांवा।
 महदगत—(सं. वि.) जिसने श्रेष्ठ पुत्र का आश्रय लिया हो।
 महदभय—(सं. पुं.) अधिक भय या डर।
 महन—(हि. पुं.) देखें 'मयन'।
 महना—(हि. क्रि. स.) दही-बूध आदि को मयना; (पुं.) मयानी, रई।
 महनिया—(हि. पुं.) मयनेवाला।
 महनु—(हि. पुं.) नाश करनेवाला, मयन करनेवाला।
 महमंत—(हि. वि.) मदोन्मत्त, मस्त।

महमदी—(हि. वि., पुं.) मुहम्मद के मत का अनुयायी, मुसलमान।
 महमह—(हि. अव्य.) सुगन्ध देते हुए।
 महमहण—(हि. पुं.) विष्णु।
 महमहा—(हि. वि.) सुगन्धित।
 महमहाना—(हि. क्रि. अ.) सुगन्ध देना, महकना।
 महमानी—(हि. स्त्री.) पहनई।
 महमाय—(हि. स्त्री.) पावती।
 महर—(हि. पुं.) एक आदरसूचक शब्द जो व्रज में बोला जाता है, (इसका व्यवहार विशेष करके भूस्वामी और वैश्यों के लिये किया जाता है), एक प्रकार की चिड़िया; (वि.) सुगन्धित, देखें 'महरा'।
 महरवान—(हि. पुं.) कृपा करनेवाला।
 महरा—(हि. पुं.) कहार, सरदार, श्वसुर के लिये आदरसूचक शब्द; (वि.) श्रेष्ठ, बड़ा; -ई—(स्त्री.) श्रेष्ठता, प्रधानता।
 महराज—(हि. पुं.) देखें 'महाराज'।
 महराजा—(हि. पुं.) देखें 'महाराज'।
 महराना—(हि. पुं.) महरों के रहने का स्थान।
 महराव—(हि. स्त्री.) मसजिद आदि की ऊपर की वृत्ताकार रचना।
 महरि—(हि. स्त्री.) व्रज में प्रतिष्ठित स्त्रियों के लिये व्यवहार किये जाने का आदरसूचक शब्द, घर की स्वामिनी, एक प्रकार का पक्षी।
 महरी—(हि. स्त्री.) ग्वालिन नामक चिड़िया।
 महरू—(हि. पुं.) चंडू पीने की नली, एक प्रकार का वृक्ष।
 महरेटा—(हि. पुं.) श्रीकृष्ण, महर का बेटा।
 महरेटी—(हि. स्त्री.) राधिका, महर की लड़की।
 महघता—(सं. स्त्री.) महँगा होने का भाव, महँगी, महघंता।
 महलोक—(सं. पुं.) पुराण के अनुसार ऊपर के सात लोकों में से एक लोक।
 महर्षभ—(सं. पुं.) बड़ा सांड; (वि.) महान्, श्रेष्ठ।
 महर्षि—(सं. पुं.) अति श्रेष्ठ ऋषि, ऋषी-श्वर, संगीत में एक राग का नाम।
 महल्ल—(सं. पुं.) वृद्ध मनुष्य, राजा।
 महल्लक—(सं. पुं.) अन्तःपुर का रक्षक।
 महत्—(सं. पुं.) यज्ञ, आनन्द, जल; (वि.) पूज्यमान, बड़ा, महत्।
 महा—(हि. अव्य.) देखा 'मह'; (सं. वि.) अत्यंत, बहुत, अधिक, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़कर, बहुत बड़ा, भारी; (हि. पुं.) मठा, छाछ।
 महाई—(हि. स्त्री.) मयने का काम, मयने का भाव, मयने का गुण।

महाजत—(हि. पुं.) देखें 'महावत' ।
 महाजर—(हि. पुं.) देखें 'महावर' ।
 महाकंबु—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 महाकच्छ—(सं. पुं.) समुद्र, वरुण, पर्वत ।
 महाकपाल—(सं. पुं.) शिव के एक अनुचर का नाम ।
 महाकपोल—(सं. पुं.) शिव का एक अनुचर ।
 महाकर—(सं. पुं.) लंबा हाथ, अधिक लगान; (वि.) बड़े हाथोंवाला, रश्मिवान् ।
 महाकरुण—(सं. वि.) अति दयालु ।
 महाकर्ण—(सं. पुं.) शिव, महादेव; (वि.) जिसके बड़े-बड़े कान हों ।
 महाकर्णा—(सं. स्त्री.) कार्तिकेय की एक मातृका का नाम ।
 महाकल्प—(सं. पुं.) शिव, महादेव, उतना काल जितने में एक ब्रह्मा का आयुष्य पूरा होता है ।
 महाकांत—(सं. वि.) बहुत सुन्दर ।
 महाकांता—(सं. स्त्री.) पृथ्वी ।
 महाकाय—(सं. पुं.) शिव का द्वारपाल, नन्दी, हाथी, बड़ा शरीर; (वि.) बड़े शरीरवाला ।
 महाकारण—(सं. पुं.) सब कर्मों का कारण, परमेश्वर ।
 महाकाल—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 महाकाली—(सं. स्त्री.) महाकाल की पत्नी, दुर्गा की एक मूर्ति का नाम, शक्ति की एक अनुचरी ।
 महाकाव्य—(सं. पुं.) छंदोवैद्व वह बड़ा काव्य जिसमें आठ या उससे अधिक सर्ग हों, जिसमें शृंगार, वीर, शान्त, हास्य, करुण, वीभत्स आदि रसों का अंगभूत वर्णन हो तथा जिसमें किसी ऐतिहासिक घटना अथवा किसी महात्मा का चरित्र और उसके सामाजिक कृत्यों के मुख्य वर्णन के साथ प्राकृतिक सौन्दर्य, ऋतुओं आदि का विशद वर्णन हो ।
 महाकुमार—(सं. पुं.) युवराज ।
 महाकृच्छ्र—(सं. पुं.) विष्णु का एक नाम ।
 महाकैतु, महाकेश—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 महाक्रतु—(सं. पुं.) राजसूय, अश्वमेध आदि बड़ा यज्ञ ।
 महाक्रम—(सं. पुं.) विष्णु, महादेव ।
 महाखर्व—(सं. पुं.) सौ खर्व की संख्या ।
 महाखात—(सं. पुं.) लंबा-चौड़ा गड्ढा ।
 महाख्यात—(सं. वि.) अति प्रसिद्ध ।
 महागंध—(सं. पुं.) कुटज, हरिचन्दन; (वि.) सुगन्धपूर्ण ।
 महागद—(सं. पुं.) कोई बड़ा रोग ।
 महागर्भ—(सं. पुं.) शिव, एक दानव का नाम

महागव—(सं. पुं.) गवय, गाय के समान एक पशु जिसके गले में झालर न हो ।
 महागुनी—(हि. पुं.) देखें 'महोगनी' ।
 महागौरी—(सं. स्त्री.) दुर्गा का एक नाम ।
 महाग्रीव—(सं. पुं.) ऊँट, शिव, महादेव ।
 महाघोर—(सं. वि.) अति भयानक ।
 महाचंड—(सं. पुं.) शिव के एक अनुचर का नाम ।
 महाचक्र—(सं. पुं.) बड़ा चक्र, भवचक्र ।
 महाचपला—(सं. स्त्री.) आर्या छन्द का एक भेद ।
 महाचित्ता—(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम ।
 महाजन—(सं. पुं.) साधु, श्रेष्ठ पुरुष, धनी, स्वयंपैसे का लेन-देन करनेवाला, भद्र पुरुष साहूकार, बनिया, कोठीवाला ।
 महाजनी—(हि. स्त्री.) रुपये के लेन-देन का व्यवसाय, हुंडी-पुरजे का काम, महाजनों के यहाँ बही-खाता लिखने की एक लिपि जिसमें मात्राएँ आदि नहीं लगायी जातीं, मुड़िया अक्षर ।
 महाजल—(सं. पुं.) समुद्र ।
 महाजाति—(सं. स्त्री.) श्रेष्ठ वर्ण ।
 महाजानु—(सं. पुं.) शिव के एक अनुचर ।
 महाजिह्व—(सं. पुं.) एक असुर, शिव ।
 महाज्ञान—(सं. पुं.) परम ज्ञान ।
 महाज्वाला—(सं. स्त्री.) धधकती ज्वाला, जिस अंगि में धधकती ज्वाला हो ।
 महाद्वय—(सं. वि.) अति धनवान्, बड़ा धनी ।
 महातंक—(सं. पुं.) बड़ी व्याधि ।
 महातत्त्व—(सं. पुं.) ज्ञानतत्त्व ।
 महातत्त्वा—(सं. स्त्री.) दुर्गा की अनुचरी ।
 महातप (पा)—(हि. सं. पुं.) कठिन तपस्या, विष्णु ।
 महातपन—(सं. पुं.) एक नरक का नाम ।
 महातम—(हि. पुं.) देखें 'माहात्म्य' ।
 महातल—(सं. पुं.) चौदह भुवनों में से पृथ्वी के नीचे का पाँचवाँ भुवन या तल ।
 महातिवत—(सं. पुं.) वकायन का वृक्ष, चिरायता ।
 महातीक्ष्ण—(सं. वि.) बहुत तीखा या कड़वा ।
 महातेजा—(सं. पुं.) पारा, अग्नि, शिव, कार्तिकेय; (वि.) बड़ा प्रतापवान् ।
 महात्मा—(हि. पुं.) वह जिसकी आत्मा का आशय बहुत ऊँचा हो, महानुभाव, परमात्मा, शिव, महादेव, बहुत बड़ा साधु, संन्यासी या विरक्त ।
 महात्यय—(सं. पुं.) घोर विपत्ति, सर्व-नाश ।
 महात्यागी—(हि. वि.) जिसने संसार का माया-मोह आदि विलकुल छोड़ दिया हो ।
 महादंड—(सं. पुं.) यम के हाथों का बड़ा दण्ड ।

महादंत—(हि. पुं.) हाथी का दांत, शिव, महादेव ।
 महादान—(सं. पुं.) वे बड़े दान जिनके करने से अनन्त स्वर्ग की प्राप्ति होती है, (प्रधान महादान—सोना, सोने का घोड़ा, तिल, गाय, दासी, रथ, पृथ्वी, घर, कन्या और कपिला गाय का दान है) ।
 महादूत—(सं. पुं.) यमदूत ।
 महादेव—(सं. पुं.) शिव, (अष्टमूर्ति के अन्तर्गत यह सोम-मूर्ति तथा ब्रह्मस्वरूप है) ।
 महादेवी—(सं. स्त्री.) दुर्गा का एक नाम, राजा की प्रधान रानी या पटरानी ।
 महाद्युति—(सं. स्त्री.) चमकीला प्रकाश ।
 महाद्रुम—(सं. पुं.) ताल-वृक्ष, ताड़ का पेड़ ।
 सहद्रोण—(सं. पुं.) शिव, महादेव, सुमेरु पर्वत ।
 महाद्रोणा—(सं. स्त्री.) द्रोणपुष्पी ।
 महाद्वीप—(सं. पुं.) पृथ्वी का वह बड़ा भाग जो चारों ओर प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हो, जिसमें अनेक देश हों और अनेक जातियाँ वास करती हों ।
 महाधन—(सं. वि.) बहुमूल्य, बहुत धनी; (पुं.) सुवर्ण, सोना, खेती, सुगन्ध, धूप ।
 महाध्वनि—(सं. पुं.) बड़े जोर का शब्द ।
 महानंद—(सं. पुं.) मुक्ति, मोक्ष, अति प्रसन्नता, मगध देश के एक प्रतापी राजा का नाम, दस अंगुल की बाँसुरी ।
 महानंदा—(सं. स्त्री.) सुरा, माघ शुक्ला नवमी ।
 महानग्न—(सं. वि.) जिसके शरीर पर वस्त्र न हो ।
 महानट—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 महानरक—(सं. पुं.) अत्यन्त यातनापूर्ण नरक ।
 महानल—(सं. पुं.) भयंकर आग ।
 महानवमी—(सं. स्त्री.) आश्विन शुक्ला नवमी ।
 महानस—(सं. पुं.) पाकशाला ।
 महानाटक—(सं. पुं.) दस अंकों का नाटक ।
 महानाडी—(सं. स्त्री.) मोटी नस ।
 महानाद—(सं. पुं.) गज, हाथी, सिंह, ऊँट, शंख, बड़ा ढोल, शिव, महादेव, बरसनेवाला बादल, जोर का शब्द ।
 महानाभ—(सं. पुं.) हिरण्याक्ष के एक पुत्र का नाम, एक प्रकार का मन्त्र जिससे शत्रु के फेके हुए अस्त्र व्यर्थ हो जाते हैं ।
 महानारायण—(सं. पुं.) विष्णु ।
 महानास—(सं. पुं.) शिव, महादेव; (वि.) बड़ी नाकवाला ।
 महानिद्रा—(सं. स्त्री.) मृत्यु, मरण ।
 महानिधान—(सं. पुं.) वुमुक्षित घातुभेदी

पारा जिसको "वावन तोला पाव रती" भी कहते हैं।
महानिब-(सं. पुं.) वकायन का वृक्ष।
महानियम-(सं. पुं.) विष्णु।
महानिरय-(सं. पुं.) एक नरक का नाम।
महानिर्वाण-(सं. पुं.) पूर्ण निर्वाण जिसके अधिकारी केवल अर्हत या बुद्ध गण माने जाते हैं।
महानिशा-(सं. स्त्री.) रात्रि का मध्य भाग, आधी रात, प्रलय की रात्रि।
महानील-(सं. पुं.) भृंगराज पक्षी, एक प्रकार का नीलम, एक प्रकार का सर्प, सब से बड़ी संख्या।
महानुभाव-(सं. पुं.) महाबाय, कोई बड़ा आदरणीय व्यक्ति, बड़ा आदमी; -ता-(स्त्री.) महानुभाव होने का भाव, बड़प्पन।
महानुराग-(सं. पुं.) ऐकान्तिक प्रेम।
महानेत्र-(सं. पुं.) शिव, महादेव।
महानैमि-(सं. पुं.) काक, कौवा।
महान्-(सं. वि.) महा, बहुत बड़ा।
महान्वय-(सं. वि.) जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो।
महापक्षी-(सं. पुं.) उल्लू, गरुड़।
महापत्र-(सं. पुं.) सागौन का वृक्ष।
महापथ-(सं. पुं.) प्रधान पथ, राजपथ, बहुत लंबा-चौड़ा मार्ग, मृत्युपथ, परलोक-मार्ग, शिव, महादेव, सुषुम्ना नाड़ी, एक नरक का नाम।
महापद्म-(सं. पुं.) एक नाग का नाम, कुबेर की नौ निधियों में से एक, सौ पद्म की संख्या, सफद कमल, दक्षिण दिशा का दिग्गज, एक नरक का नाम, नन्द राजा के एक पुत्र का नाम।
महापद्म-(सं. पुं.) महाकाव्य।
महापवित्र-(सं. वि.) अति पवित्र।
महापात-(सं. पुं.) तीर का दूर गिरना।
महापातक-(सं. पुं.) पाँच सब से बड़े पाप, यथा-ब्रह्महत्या, सुरापान, स्तेय (चोरी), गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करना तथा इन पापाचारियों के साथ संसर्ग।
महापातकी-(सं. वि., पुं.) महापातक करनेवाला।
महापात्र-(सं. पुं.) प्रधान मन्त्री, कट्टहा ब्राह्मण जो मृतक-कर्म का दान लेता है।
महापाद-(सं. पुं.) शिव, महादेव।
महापाश-(सं. पुं.) यमदूत विशेष।
महापुत्र-(सं. पुं.) पौत्र, पोता।
महापुरी-(सं. स्त्री.) राजधानी।
महापुरुष-(सं. पुं.) नारायण, भगवान्, महात्मा, महानुभाव, श्रेष्ठ मनुष्य।

महापुष्प-(सं. पुं.) लाल कनेर, काली मूंग।
महापूजा-(सं. स्त्री.) दुर्गा-नवरात्र की पूजा।
महापूत-(सं. वि.) अति पवित्र।
महापूठ-(सं. पुं.) उष्ट्र, ऊँट; (वि.) चौड़ी पीठ का।
महाप्रकाश-(सं. पुं.) अवतार आदि का आविर्भाव।
महाप्रजापति-(सं. पुं.) विष्णु।
महाप्रताप-(सं. वि.) अत्यन्त प्रभावशाली।
महाप्रभ-(सं. वि.) जिसमें बहुत चमक हो।
महाप्रभाव-(सं. वि.) अति बलवान्।
महाप्रभु-(सं. पुं.) परमेश्वर, चैतन्य, बल्लभाचार्य की पदवी, राजा, इन्द्र, शिव, विष्णु, सन्यासी या साधु, वैष्णव, आचार्य चैतन्य की एक आदरसूचक पदवी।
महाप्रलय-(सं. पुं.) त्रैलोक्य का नाश या संहार जो ब्रह्मा के एक दिन वीतन पर होता है।
महाप्रसाद-(सं. पुं.) विष्णु का नैवेद्य, जगन्नाथजी को चढ़ाया हुआ भात; मांस, अखाद्य पदार्थ, अधिक प्रसन्नता।
महाप्रसूत-(सं. पुं.) एक बहुत बड़ी संख्या का नाम।
महाप्रस्थान-(सं. पुं.) शरीर त्यागने की इच्छा से हिमालय की ओर जाना, मृत्यु, मरण।
महाप्राज्ञ-(सं. वि.) परम ज्ञानी।
महाप्राण-(सं. पुं.) काला कौवा, व्याकरण में--ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, म, श, ष, स और ह-इन वर्णों का नाम; (वि.) बहुत बलवान्।
महाफल-(सं. पुं.) वेल का वृक्ष, नारियल का पेड़, बड़ा फल।
महाफला-(सं. स्त्री.) इन्द्रवारुणी, बड़ा जामुन, नील का पौधा।
महाबंध-(सं. पुं.) भोग की एक क्रिया।
महाबल-(सं. पुं.) सीसा धातु, पितरों के एक गण का नाम, वायु, शिव के एक अनुचर का नाम; (वि.) अत्यन्त बलवान्।
महाबला-(सं. स्त्री.) पीली सहदेई, पीपल, नील का पौधा, घव का पेड़, कार्तिकेय की एक मातृका का नाम।
महाबली-(हिं. वि.) बहुत बड़ा बलवान्।
महाबाहु-(सं. वि.) लंबी भुजाओंवाला, बलवान्; (पुं.) विष्णु, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
महाबुद्धि-(सं. वि.) तीव्र बुद्धिवाला।
महाबोधि-(सं. पुं.) बुद्धदेव।
महानाहण-(सं. पुं.) देखें 'महापात्र', वह ब्राह्मण जो मृतक-कृत्य का दान लेता है।

महाभट-(सं. पुं.) बहुत बड़ा योद्धा।
महाभाग-(सं. वि.) अति भाग्यवान्, सौभाग्यशाली, महात्मा।
महाभागवत-(सं. पुं.) परम वैष्णव, एक उपपुराण का नाम, छत्वीस मात्राओं का एक छन्द, बारह महामंक्त; यथा-मनु, सनकादि, नारद, जनक, कपिल, ब्रह्मा, बलि, भीष्म, प्रह्लाद, शुकदेव, धर्मराज और शंभु।
महाभागी-(सं. वि.) भाग्यवान्।
महाभार-(सं. पुं.) भारी बोझ।
महाभारत-(सं. पुं.) व्यासप्रणीत अठारह पर्वों का एक प्राचीन एतिहासिक महाकाव्य जिसमें कौरवों तथा पांडवों के युद्ध का वर्णन है; कौरव-पाण्डवों का युद्ध, कोई महा-युद्ध।
महाभाष्य-(सं. पुं.) पाणिनि व्याकरण के सूत्रों का विस्तृत भाष्य जिसको पतंजलि ने लिखा है।
महाभासुर-(सं. पुं.) विष्णु; (वि.) अधिक चमकनेवाला।
महाभिमान-(सं. पुं.) अत्यधिक घमंड।
महाभीत-(सं. वि.) बहुत डरपीक।
महाभीस-(सं. पुं.) राजा शान्तनु का एक नाम।
महाभीरु-(सं. वि.) अत्यन्त डरपीक।
महाभुज-(सं. वि.) जिसकी बाँहें लंबी हों।
महाभूत-(सं. पुं.) पंचतत्व; यथा-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश।
महाभूषण-(सं. पुं.) मूल्यवान् अलंकार।
महाभैरव-(सं. पुं.) शरमल्पी शिव।
महाभैरवी-(सं. स्त्री.) तान्त्रिकों के अनुसार एक विद्या का नाम।
महाभोग-(सं. स्त्री.) दुर्गा का एक नाम।
महाभोगी-(सं. पुं.) बड़े फनवाला सर्प।
महाभ्र-(सं. पुं.) घन मेघ, गहरी घटा।
महामंत्र-(सं. पुं.) बीज-मन्त्र, इष्ट मन्त्र, बड़ा प्रभावशाली मन्त्र।
महामंत्री-(सं. पुं.) राजा का प्रधान मन्त्री।
महामख-(सं. पुं.) बड़ा यज्ञ।
महामणि-(सं. पुं.) मूल्यवान् रत्न।
महामति-(सं. वि.) अति बुद्धिमान्, चतुर; (पुं.) गणेश, वृहस्पति, यक्षराज।
महामति-(सं. वि.) बहुत बुद्धिमान्।
महामद-(सं. पुं.) मस्त हाथी; (वि.) बहुत प्रसन्न।
महामह-(सं. पुं.) बड़ा उत्सव।
महामहोपाध्याय-(सं. पुं.) श्रेष्ठ पण्डित, गुरुओं का गुरु, एक उपाधि जो संस्कृत भाषा के विद्वानों या पण्डितों को

दी जाती है।

महामांस—(सं. पुं.) मनुष्य के शरीर का मांस; (गाय, हाथी, घोड़ी, भैंस, बर्राह, ऊँट तथा उरग का) मांस।

महामांसी—(सं. स्त्री.) संजीवनी नाम का पौधा।

महामाई—(हिं. स्त्री.) दुर्गा, काली।

महामात्य—(सं. पुं.) राजा का प्रधान या सब से बड़ा मन्त्री।

महामात्र—(सं. वि.) प्रधान, श्रेष्ठ, सम्पन्न, धनवान्; (पुं.) प्रधान मन्त्री।

महामानी—(सं. वि.) बहुत धमंडी।

महामाया—(सं. पुं.) गिव, विष्णु, विद्याधर का एक भेद; (स्त्री.) गंगा, बुद्धदेव की माता का नाम, दुर्गा, आर्या छन्द का एक भेद।

महामारी—(सं. स्त्री.) महाकाली, वह संक्रामक और भीषण रोग जिससे एक साथ बहुत से मनुष्यों की मृत्यु होती है।

महामाल—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

महामालिका—(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में अठारह अक्षर होते हैं।

महामालिनी—(सं. स्त्री.) नाराच छन्द का एक नाम।

महामाप—(सं. पुं.) राजमाप, बड़ा उड़द।

महामुख—(सं. पुं.) महादेव, नदी का मुहाना; (वि.) बड़े मुखवाला।

महामुनि—(सं. पुं.) अगस्त्य मुनि, कृपाचार्य, बुद्ध, वेदव्यास।

महामूर्ख—(सं. वि.) निपट मूर्ख।

महामूर्ति—(सं. पुं.) विष्णु।

महामृग—(सं. पुं.) हाथी, सिंह शेर।

महामृत्युंजय—(सं. पुं.) गिव का एक मन्त्र विशेष।

महामृत्यु—(सं. पुं.) यम, गिव।

महामेघ—(सं. पुं.) काली घटा।

महामेद—(सं. पुं.) अष्टवर्ग की एक प्रसिद्ध औषधि।

महामेदा—(सं. स्त्री.) महामेद नामक जड़ी।

महामंत्री—(सं. स्त्री.) गाढ़ी मित्रता।

महामोदकारी—(सं. पुं.) एक वार्षिक वृत्त, (इसको श्रीडाचक्र भी कहते हैं।)

महामोह—(सं. पुं.) सांसारिक सुखों का भोग।

महामोहा—(सं. स्त्री.) दुर्गा का एक नाम।

महाय—(हिं. वि.) देखें 'महा', बहुत।

महायज्ञ—(सं. पुं.) यक्षपति, एक प्रकार के बौद्ध देवता।

महायज्ञ—(सं. पुं.) वेदपाठ, हवन, अतिथि-पूजा, तर्पण और बलि—ये पाँच महायज्ञ कहलाते हैं।

महायमक—(सं. पुं.) ब्लोक का एक भेद

जिसके प्रत्येक पाद में एकसी शब्दात्मक आवृत्ति की जाती है परन्तु अर्थ में भेद रहता है।

महायशा—(सं. वि.) बड़ा यशस्वी।

महायात्रा—(सं. स्त्री.) महा तीर्थयात्रा, मृत्यु।

महायान—(सं. पुं.) एक विद्याधर का नाम, बड़ी बैलगाड़ी, बौद्धों का एक विशेष सम्प्रदाय।

महायुग—(सं. पुं.) सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलि—इन चारों युगों का समूह।

महायुत—(सं. पुं.) सौ अयुत की संख्या का नाम।

महायुध—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

महायोगी—(सं. पुं.) श्रेष्ठ योगी, विष्णु, शिव।

महायोगिक—(सं. पुं.) उनतीस मात्राओं के एक छन्द का नाम।

महाय्य—(सं. वि.) पूजने योग्य।

महारक्त—(सं. पुं.) प्रवाल, मूंगा।

महारजत—(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना, घतूरा।

महारण—(सं. पुं.) महायुद्ध, व्यापक लड़ाई।

महारण्य—(सं. पुं.) बड़ा जंगल।

महारथ—(सं. पुं.) शिव, बड़ा योद्धा।

महारथी—(सं. पुं.) देखें 'महारथ'।

महारव—(सं. पुं.) भेक, भेदक।

महारस—(सं. पुं.) पारा, हिंगुल, अभ्रक; (वि.) जिसमें बहुत रस हो।

महाराज—(सं. पुं.) राजाओं में श्रेष्ठ, बहुत बड़ा राजा, (ब्राह्मण, गुरु, आचार्य या किसी पूज्य) के लिये संबोधन।

महाराजाधिराज—(सं. पुं.) बहुत बड़ा राजा, अनेक राजाओं में श्रेष्ठ।

महाराज्ञी—(सं. स्त्री.) दुर्गा, महारानी।

महाराज्य—(सं. पुं.) बहुत बड़ा राज्य।

महाराणा—(सं. पुं.) उदयपुर या चित्तौड़ के राजवंश की एक उपाधि।

महारात्रि—(सं. स्त्री.) महाप्रलय की रात्रि जब ब्रह्मा का लय हो जाता है और दूसरा महाकल्प आरंभ होता है; दुर्गा, तंत्रिकों के अनुसार ठीक आधी रात

बीतने पर दो मुहूर्तों का समय, आश्विन शुक्ला अष्टमी।

महारावण—(सं. पुं.) पुराण के अनुसार वह रावण जिसके हजार मुख और दो हजार भुजाय थीं।

महारावल—(हिं. पुं.) राजपूताना, जैसलपुर और डूंगरपुर के राजवंशों की उपाधि।

महाराष्ट्र—(सं. पुं.) भारतवर्ष के दक्षिण का एक विस्तीर्ण जनपद, इस देश में रहनेवाला, बड़ा राष्ट्र या राज्य।

महाराष्ट्री—(सं. स्त्री.) जलपिप्पली, एक प्रकार का शाक, अठारह प्रकार की

प्राकृत भाषाओं में एक, आधुनिक महा-राष्ट्र देश की भाषा, मराठी।

महारजा—(सं. स्त्री.) घोर पीड़ा या दुःख।

महारद्र—(सं. पुं.) महादेव।

महारूप—(सं. पुं.) महादेव; (वि.) बहुत रूपवान्।

मारोर्ग—(सं. पुं.) असाध्य व्याधि या रोग।

मारोर्द्र—(सं. पुं.) शिव, महादेव, वाइस मात्राओं का एक छन्द।

मारोर्द्री—(सं. स्त्री.) दुर्गा का एक नाम।

मारोर्रव—(सं. पुं.) एक नरक का नाम।

मारर्ध—(सं. वि.) बहुमूल्य।

मारर्धता—(सं. स्त्री.) मारर्धहोने का भाव।

मारर्धव—(सं. पुं.) बड़ा समुद्र, शिव, महादेव, एक दैत्य का नाम।

मारर्धक—(सं. वि.) अधिक मूल्य का।

मारर्धुद—(सं. पुं.) सौ करोड़ या दस अर्ब की संख्या।

मारर्ह—(सं. वि.) बहुमूल्य, योग्य।

मारलक्ष्मी—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी, नारायण की शक्ति, राधा, एक वार्षिक वृत्त का नाम।

मारलय—(सं. पुं.) पितृपक्ष, आश्विन का कृष्ण पक्ष जिसमें पितरों के लिये तर्पण, श्राद्ध आदि किये जाते हैं, बड़ा मकान।

मारलया—(सं. स्त्री.) आश्विन कृष्ण अमावस्या—जिस दिन पितरों के लिये पार्वण श्राद्ध आदि किये जाते हैं।

मारलस—(सं. वि., पुं.) बहुत आलसी (व्यक्ति)।

मारलिंग—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

मारलोभ—(सं. पुं.) काक, कौवा; (वि.) बहुत लालची।

मारलोल—(सं. वि.) अत्यन्त चंचल।

मारलवट—(हिं. स्त्री.) माघ-पूस की वर्षा।

मारलवत—(हिं. पुं.) हाथी हाँकनेवाला।

मारलवतारी—(सं. पुं.) पचीस मात्राओं के एक छन्द का नाम।

मारलवन—(सं. पुं.) घोर जंगल।

मारलवर—(हिं. पुं.) लाख से बना हुआ एक प्रकार का लाल रंग जिससे सौभाग्यवती

स्त्रियाँ अपने पर रँगती हैं।

म(मु) हावरा—(हिं. पुं.) लक्षणिक शब्द-योजना।

म(मु) हावरेदार—(हिं. वि.) महावरायुक्त।

मारललक—(सं. पुं.) जायफल का पेड़।

मारलल्ली—(सं. स्त्री.) माघवी लता।

मारलसु—(सं. वि.) बड़ा धनी।

मारलवात, मारलवायु—(सं. पुं.) प्रचण्ड वायु।

मारलवारुणी—(सं. स्त्री.) गंगा-स्नान का एक योग, (चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन

(पुं.) भूमण्डल; -मय- (वि.) मिट्टी का बना हुआ; -यस्त्व- (पुं.) प्रभुता, श्रेष्ठता; -रह- (पुं.) वृक्ष, पादप, पेड़; -लता- (स्त्री.) कंचुआ; -शासक- (पुं.) भूपाल, राजा; -सुत- (पुं.) पृथ्वी का पुत्र, मंगल ग्रह; -सुर- (पुं.) ब्राह्मण ।
महीन- (हिं. वि.) जिसकी मोटाई या घेरा बहुत कम हो, वारीक, कोमल, पतला, धीमा, जो श्रुतिकटु या कर्कश न हो, मन्द ।
महीना- (हिं. पुं.) काल का वह परिमाण जो वर्ष के बारहवें अंश के बराबर होता है, मासिक वेतन, स्त्रियों का मासिक धर्म, ऋतुकाल ।
महुँ- (हिं. अव्य.) देखें 'महँ' ।
महुअर- (हिं. स्त्री.) महुआ मिलाकर पकाई हुई रोटी, एक प्रकार का बाजा जिसको सँपेरे वजाते हैं, तुमड़ी, तुंवी, महुअर वजाकर खेला जानेवाला एक इन्द्रजाल का खेल ।
महुअरी- (हिं. स्त्री.) आटे में महुआ मिलाकर बनाई हुई रोटी ।
महुआ- (हिं. पुं.) एक प्रकार का प्रसिद्ध वृक्ष जिसके छोटे मीठे फलों से एक प्रकार की मदिरा बनती है ।
महुआरी- (हिं. स्त्री.) महुए का जंगल ।
महुआ- (हिं. पुं.) महुआ, जेठीमधु, मुलेठी ।
महुम- (हिं. स्त्री.) चढ़ाई ।
महुस्त- (हिं. पुं.) देखें 'मुहूर्त' ।
महुद्र- (सं. पुं.) विष्णु, इन्द्र, भारतवर्ष के एक पर्वत का नाम, बौद्ध सम्राट् अशोक के पुत्र का नाम; -चाप- (पुं.) इन्द्रधनुष; -नगरी- (स्त्री.) अमरावती; -मन्त्री- (पुं.) वृहस्पति; -वारुणी- (स्त्री.) बड़ा इन्द्रायण ।
महेर- (हिं. पुं.) झगड़ा, देखें 'महेरा' ।
महेरा- (हिं. पुं.) एक प्रकार का व्यंजन जो दही में चावल पकाकर बनाया जाता है ।
महेरी- (हिं. स्त्री.) जल में उवाली हुई ज्वार जो नमक-मिर्च मिलाकर खाई जाती है; (वि.) बखेड़ा करनेवाला ।
महेला- (हिं. स्त्री.) देखें 'महिला', स्त्री; (पुं.) पगुओं को खिलाने का एक पौष्टिक पदार्थ ।
महेलका- (सं. स्त्री.) महिला, नारी, बड़ी इलायची ।

महेश- (सं. पुं.) शिव, महादेव, ईश्वर ।
महेशबन्धु- (सं. पुं.) श्रीफल, बेल का फल ।
महेशानी- (सं. स्त्री.) दुर्गा देवी ।
महेश्वर- (सं. पुं.) शिव, महादेव, परमेश्वर ।
महेश्वरी- (हिं. पुं.) दुर्गा, पश्चिम भारत के बनियों की एक शाखा ।
महेषु- (सं. पुं.) बड़ा तीर या बाण ।
महेश- (हिं. पुं.) देखें 'महेश' ।
महेशिया- (हिं. पुं.) एक प्रकार का बढ़िया धान ।
महैला- (सं. स्त्री.) बड़ी इलायची ।
महैश्वर्य- (सं. पुं.) महाशक्ति, बहुत बल ।
महोक, महोख- (हिं. पुं.) देखें 'महोखा' ।
महोखा- (हिं. पुं.) एक प्रकार का कथई रंग का कौवे के आकार का पक्षी जो वेग से दौड़ सकता है पर दूर तक उड़ नहीं सकता ।
महोगनी- (सं. पुं.) एक प्रकार का बड़ा सदावहार वृक्ष, (इसकी लकड़ी बहुत पुष्ट, टिकाऊ और बहुमूल्य होती है) ।
महोच्छव, महोछा- (हिं. पुं.) महोत्सव ।
महोती- (हिं. स्त्री.) महुवे का फल ।
महोत्पल- (सं. पुं.) पद्म, सारस पक्षी ।
महोत्सव- (सं. पुं.) कोई बड़ा उत्सव ।
महोत्साह- (सं. पुं.) विष्णु, कठिन उद्यम ।
महोदधि- (सं. पुं.) सागर, समुद्र ।
महोदय- (सं. पुं.) कान्यकुब्ज देश, आविपत्य, स्वामी, महाशय, बड़ों के लिये आदर-सूचक शब्द ।
महोदया- (सं. स्त्री.) महाशया, नागवला ।
महोदर- (सं. वि.) जिसका पेट बड़ा हो; (पुं.) शिव, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।
महोद्यम, महोद्योग- (सं. पुं.) बड़ा उद्योग या प्रयत्न ।
महोन्नत- (सं. वि.) जिसकी बड़ी उन्नति हुई हो; (पुं.) ताल वृक्ष, नारियल का पेड़ ।
महोन्नति- (सं. स्त्री.) अधिक उन्नति ।
महोन्मद- (सं. वि.) अति उन्मत्त ।
महोत्ता- (हिं. पुं.) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का एक विभाग ।
महोविया, महोवी- (हिं. वि.) महोवे का ।
महोपठ- (सं. वि.) जिसका ओठ लंबा और मोटा हो ।
महोष- (सं. पुं.) नदी की वाढ़ ।
महोजस- (सं. वि.) परम यशस्वी ।
महोषध- (सं. पुं.) लहसुन, सोंठ, वाराही कन्द, अतीस, बछनाग, पीपल ।
महोषधि- (सं. स्त्री.) श्रेष्ठ औषधि, (देवी को स्नान कराने में सर्वाँषधि और महोषधि का उपयोग होता है—बहेड़ा, व्याघ्री, बला, अतिबला, शंखपुष्पी, बृहती,

क्षीरकाकोली और सुवर्चला का चूर्ण ।
माँ- (हिं. स्त्री.) जन्म देनेवाली माता, (अव्य.) में ।
माँकड़ी- (हिं. स्त्री.) देखें 'मकड़ी किमखाव बुननेवालों का एक औजार ।
माँखन- (हिं. पुं.) मक्खन, नवनीत ।
माँखना- (हिं. क्रि. अ.) क्रुद्ध होना, क्रोध करना ।
माँखी- (हिं. स्त्री.) मक्खी ।
माँग- (हिं. स्त्री.) माँगने की क्रिया या भाव, आवश्यकता, सिर के बाल के बीच की रेखा जो बालों को सँवारने में बनाई जाती है, नाव का नुकीला भाग, सिल के ऊपर का भाग जो कूटा नहीं रहता, किसी वस्तु का ऊपरी भाग, सिरा; (मुहा.)—कोख से सुखी रहना—स्त्रियों का सौभाग्यवती तथा सन्तानवती होना ।
माँग-टीका- (हिं. पुं.) स्त्रियों का वह गहना जिसको वे माँग पर पहनती हैं ।
माँगन- (हिं. पुं.) माँगने की क्रिया या भाव, याचक, भिखमंगा ।
माँगना- (हिं. क्रि. स.) कुछ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना करना, आकांक्षा-पूर्ति के लिये कहना ।
माँगफूल- (हिं. पुं.) देखें 'माँग-टीका' ।
माँगल गीत- (हिं. पुं.) विवाह आदि मंगल अवसरों पर गाया जानवाला गीत ।
माँगलिक- (सं. पुं.) नाटक का वह पात्र जो मंगलपाठ करता है; (वि.) मंगल या भला करनेवाला ।
माँगल्य- (सं. वि.) शुभजनक, मंगलकारी; (पुं.) मंगल का भाव ।
माँगल्य गीत- (सं. पुं.) वह गीत जो विवाह आदि शुभ अवसरों पर गाया जाता है ।
माँगल्या- (सं. स्त्री.) शमी का वृक्ष ।
माँगी- (हिं. स्त्री.) धुनकी की लकड़ी जिस पर ताँत कसी रहती है ।
माँच- (हिं. पुं.) पाल के कोने पर बँधा हुआ रस्सा जिससे पाल ढीला किया या कसा जाता है ।
माँचना- (हिं. क्रि. अ.) आरंभ होना, प्रसिद्ध होना ।
माँचा- (हिं. पुं.) मचान, खाट, पलंग, मञ्जा, छोटा पीढ़ा ।
माँची- (हिं. स्त्री.) वैलगाड़ी आदि में गाड़ीवान के बैठने की जगह लगी हुई जालीदार झोली ।
माँजना- (हिं. क्रि. स.) मलकर स्वच्छ करना किसी वस्तु को रगड़कर मैल छुड़ाना,

पतंग की डोर पर मांझा देना, तानी के सूत को रँगना, अभ्यास करना, कष्टस्य करना ।

- मांजर—(हि. पुं.) अस्थि-पंजर, ठठरी ।
- मांजा—(हि. पुं.) पहली वर्षा का फेन ।
- मांज—(हि. अव्य.) में, बीच में; (पु.) अन्तर, नदी के बीच में पड़ी हुई रेतीली भूमि ।
- मांझा—(हि. पुं.) नदी के बीच की रेती, पगड़ी पर पहिने का एक आभूषण, वृक्ष का तना, पीले वस्त्र जो विवाह के समय वर और कन्या को पहनाये जाते हैं, पतंग के डोरे पर रगड़ने की सरस और काँच की बूकनी, मंझा ।
- मांझिल—(हि. वि.) बीच का ।
- मांझी—(हि. पुं.) नाव खेनेवाला, मल्लाह, केवट, झगड़ा तय करनेवाला पंच ।
- मांज—(हि. पुं.) मिट्टी का बड़ा पात्र, मटका, घर का ऊपरी भाग, अटारी ।
- मांठ—(हि. पुं.) मटका, कुंडा ।
- मांठी—(हि. स्त्री.) मछिया, मँदे का बना हुआ एक प्रकार का पकवान, मठली ।
- मांड़—(हि. पुं.) पकाये हुए चावल से निकाला हुआ पानी, भात का पसेव, एक प्रकार का राग ।
- मांड़ना—(हि. क्रि. स.) मसलना, सानना, लगाना, पोतना, गुंथना, रचना, बनाना, अन्न की ढाल से कुचलवाकर दाने निकालना, मचाना, ठानना ।
- मांड़नी—(हि. स्त्री.) गोद ।
- मांड़प—(सं. वि.) मंडप-संबंधी ।
- मांड़लिक—(सं. पुं.) किसी प्रान्त का शासक, वह छोटा राजा जो किसी सार्व-भौम राजा के अधीन हो ।
- मांड़वी—(सं. स्त्री.) राजा जनक की भतीजी जो भरत को व्याही थी ।
- मांड़ा—(हि. पुं.) घी में पकाई हुई मँदे की पतली पूरी, लची, पराठा, ऊपटा, आँस का एक रोग जिसमें पुतली पर एक सफ़ेद झिल्ली पड़ जाती है ।
- मांड़ी—(हि. स्त्री.) भात का पसेव, मांड़, आँटा, मँदा या भातल के पसेव आदि से तैयार की हुई कई अन्नमं कण्डों पर कलफ़ दिया जाता है ।
- मांड़ी—(हि. पुं.) विवाह आदि अवसर करने शुभ कर्मों के लिये प्रायाग तथा मन्थर ।
- मांड़ी—(हि. पुं.) विवाह का मन्थर, मांड़ो ।
- मांड़पो—(हि. पुं.) पालन के उपरान्त का स्थान, अतिक्रियाका, विस्तारभयानक स्थान ।
- मांति—(हि. वि.) उन्नत, विभूत, पतंग, माचला, उदास, माचं दु, मा, वराह ।

- मांतना—(हि. क्रि. अ.) उन्नत होना, पागल होना ।
- मांता—(हि. वि.) उन्नत, गतवाला ।
- मांच—(हि. पुं.) मस्तक, सिर ।
- मांच-बंधन—(हि. पुं.) मृत या ऊन की डोरी जिससे स्त्रियाँ सिर के बाल बाँधती हैं, सिर में लपेटने का कपड़ा, मुरेठा ।
- मांच—(हि. स्त्री.) हिसक पशुओं के रहने का विवर, लोह, गोबर का वह डेर जो पड़े-पड़े सूख जाता है; (वि.) पराजित, हारा हुआ, हलका, उदास ।
- मांचर—(हि. पुं.) एक प्रकार का मृदां ।
- मांचना—(हि. क्रि. अ.) उन्नत होना ।
- मांचें—(हि. अव्य.) में, बीच में, मध्य में ।
- मांस—(सं. पुं.) शरीर का रक्तजात तत्व विशेष, कुछ पशुओं के शरीर का वह अंश जो खाया जाता है; -कच्छप—(पुं.) तालु में होनेवाला एक रोग; -कोलक—(पुं.) बवासीर का मसा; -लंड—(पुं.) मांस का टुकड़ा; -ज—(पुं.) मांस से उत्पन्न शरीर की चरबी; -जाल—(पुं.) मांस की झिल्ली; -पिठ—(पुं.) शरीर, देह; -पित्त—(पुं.) अस्थि, हड्डी; -पेशी—(स्त्री.) शरीर के भीतर का मांस-पिठ, पट्टा; -फल—(पुं.) तरबूज; -भली, -भोजी—(पुं.) मांस खानेवाला; -मंड—(पुं.) मांस का झोल; -रस—(स्त्री.) मांसमंड; -ल—(पुं.) उद्व, काव्य में गोड़ी रीति का एक गुण; (वि.) मांसगुल, मांस से भरता हुआ, स्थूल, मोटा, पुष्ट, बलवान्; -सता—(स्त्री.) तरबूज, पुष्टि; -सफला (स्त्री.) तरबूज, मिठी; -वाष्णी—(स्त्री.) हस्ति आदि के मांस से बनाई हुई एक प्रकार की मदिरा; -पूति—(स्त्री.) गलगण्ड, घेघा, दूधघर, अपद्रव्य का रोग; -समुद्भवा—(स्त्री.) वंश, चरबी; -स्नेह—(पुं.) दूध ।
- मांसादान—(सं. पुं.) मांस-अर्पण, मांसदान ।
- मांसादी—(सं. पुं.) राक्षस ।
- मांसहारी—(सं. वि. पुं.) मांसभक्षी, मांस खानेवाला ।
- मांसिनी—(सं. स्त्री.) ग्टामादी ।
- मांसेमन्जीवी—(सं. पुं.) मांस से खेनेवाला ।
- मांस, मली—(हि. वि. पुं.) बीन में ।
- मांस, मांस—(हि. स्त्री.) पुत्री, मांस, नामा की स्त्री, मांस, एक पक्षर का छोटा पुतल जिसके अंगों में मांस भूसा की स्याही है ।
- मांस—(हि. स्त्री.) देहे 'मांस' ।

- माइका—(हि. पुं.) स्त्री के माता-पिता का घर, मायका ।
- माई—(हि. स्त्री.) माता, मां, वृद्धी, वृद्धी स्त्री के लिये संबोधन का शब्द; (मुद्रा.) -का लाल-गुल्दर्यार धरति, उदार-चित्त मनुष्य ।
- माकंद—(गं. पुं.) आम का वृक्ष ।
- मास—(सं. पुं.) स्पृहा, देवों 'मास' ।
- माशिक—(सं. पुं.) मनु; मोनामकनी नामक धातु ।
- मास—(हि. पुं.) अमिनाम, परांड, अप्रसन्नता पदचात्ताप, अने दोष को धारना ।
- मासन—(हि. पुं.) मक्षण, नक्षत्री ।
- मासना—(हि. क्रि. अ.) अप्रसन्न होना, क्रुद्ध होना ।
- मासी—(हि. स्त्री.) मसनी, मोनामकनी नामक धातु ।
- मागघ—(सं. पुं.) पंच-परम्यरा-यम से राजाओं की स्तुति करनेवाले, स्तुति-पाठक, वन्द्यी, भाट, जरागन्ध का एक नाम, संपदवीन; (वि.) मगघ देव रा ।
- मागधिल—(सं. वि.) मगघ देव रा ।
- मागधी—(सं. स्त्री.) बूढ़ी, छोटी पीपल, छोटी झगधची, सड़ी पान, बीरा, मगघ देव की प्राचीन भाषा; -जवा—(स्त्री.) पीपली-मूत्र ।
- माघ—(सं. पुं.) भाद्र के एक प्राचीन सदि जिसने विनायक-वत् नामक पत्नी लियी है, इस कर्मण का नाम, सौम के बाद तथा फाल्गुन के पहले का चारद मास ।
- माघजन—(सं. वि.) उग्ररक्षी ।
- माघी—(सं. स्त्री.) माघ भाग की पूर्णिमा जिस दिन मगध नगर का वीरहोता है ।
- माघोनी—(सं. स्त्री.) पूर्णिमा दिनके अक्षयिणी छत्र है ।
- माघ—(सं. पुं.) पद, माघ; (वि. पुं.) मज्जा ।
- मासना—(हि. क्रि. अ.) देहे 'मासना' ।
- मासल—(सं. पुं.) मा, सौम, मांस, वीर; (हि. वि.) स्त्री, मासल, मांस ।
- मासा—(हि. पुं.) मांस की खल, बीर ।
- मासी—(हि. स्त्री.) मास की खल, बीर ।
- मासल—(सं. पुं.) मा, सौम, मांस, वीर ।
- मासल—(हि. वि. पुं.) मा, सौम, मांस ।
- मासली—(हि. स्त्री.) मा, सौम, मांस ।
- मासल—(सं. पुं.) मा, सौम, मांस, वीर ।
- मासल—(हि. वि. पुं.) मा, सौम, मांस, वीर ।

माझा—(हि. पुं.) कमर ।
 माट—(हि. पुं.) मिट्टी का बड़ा पात्र जिसमें रंगरेज रंग बनाते हैं, बड़ी मटकी जिसमें दही रखा जाता है ।
 माटा—(हि. पुं.) लाल रंग के चींटे को झुंड के झुंड आम के पेड़ पर रहते हैं ।
 माटी—(हि. स्त्री.) शरीर, मृत शरीर, पृथ्वी नामक तत्त्व, मिट्टी, घूल, रज, किसी खेत की अच्छी तरह जोताई ।
 माठ—(हि. पुं.) एक प्रकार की मिठाई, मठली, टिकिया, मिट्टी का पात्र, मटकी ।
 माठा—(हि. पुं.) मठा, मट्ठा, कृपण, कंजस ।
 माठी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की कपास ।
 माड़—(हि. पुं.) देखें 'माँड़' ।
 माड़ना—(हि. क्रि. अ. स.) ठानना, करना, विभूषित करना, आदर करना, धारण करना, पहनना, हाथ या पैर से मसलना, माँड़ना ।
 माड़व—(हि. पुं.) देखें 'माँड़ो', मंडप ।
 माड़ा—(हि. पुं.) अटारी पर का चौवारा ।
 माड़ी—(सं. स्त्री.) पत्तों की नस, दाँतों की जड़; (हि. स्त्री.) देखें 'मड़ी' ।
 माण, माणक—(सं. पुं.) एक प्रकार का कन्द ।
 माणवक—(सं. पुं.) सोलह वर्ष तक की आयु का मनुष्य, बालक, बटु, विद्यार्थी, नीच मनुष्य ।
 माणव्य—(सं. पुं.) बालकों का समुदाय ।
 माणिक—(सं. पुं.) मानिक ।
 माणिक्य—(सं. पुं.) लाल रंग का एक रत्न, मानिक, लाल, पद्मराग; (वि.) आदरणीय, शिरोमणि, अति श्रुष्ठ ।
 मातंग—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी, पीपल का वृक्ष, ऋष्यमूक पर्वत पर रहनेवाले एक प्राचीन मुनि का नाम, एक नाग, ज्योतिष के अनुसार एक योग, संवर्तक मेघ का एक नाम, किरात जाति, चाण्डाल; —ज—(पुं.) हाथी का बच्चा; —मकर—(पुं.) एक प्रकार की बड़ी मछली ।
 मातंगी—(सं. स्त्री.) दस महाविद्याओं के अन्तर्गत एक महाविद्या ।
 मात—(हि. स्त्री.) माता; (वि.) मतवाला ।
 मातन—(अ. स्त्री.) पराजय, हार; (वि.) हारा हुआ ।
 मातना—(हि. क्रि. अ.) मस्त होना ।
 मातम—(अ. पुं.) मृत्यु-जनित शोक, गमी, स्थापा ।
 मातमय—(हि. वि.) मूर्ख ।
 मातलि—(सं. पुं.) इन्द्र के सारथी का नाम ।
 माता—(हि. स्त्री.) जन्म देनेवाली स्त्री, जननी, किमी आदरणीय स्त्री के लिए

संवोधन का शब्द, गाय, भूमि, लक्ष्मी, शीतला रोग; —मह—(पुं.) माता का पिता, नाना; —मही—(स्त्री.) मासा की माता, नानी ।
 मातु—(हि. स्त्री.) माता, माँ ।
 मातुल, मातुलक—(सं. पुं.) माता का भाई, मामा, एक प्रकार का धान, मदन वृक्ष, घतूरा, मटर ।
 मातुला—(सं. स्त्री.) मातुल की पत्नी, मामी, भाँग, मटर, सन, प्रियंगु का वृक्ष ।
 मातुलानी—(सं. स्त्री.) मामी ।
 मातुली—(सं. स्त्री.) मामी ।
 मातुलेय—(सं. पुं.) मातुल-पुत्र, ममेरा भाई ।
 मातुलेयी—(सं. स्त्री.) ममेरी वहन ।
 मातुल्य—(सं. पुं.) मामा का घर ।
 मातृ—(सं. स्त्री.) जननी, माता, गाय, भूमि, ऐश्वर्य, लक्ष्मी; (वि.) बनाने-वाली; —क—(वि.) माता-संबंधी; —का—(स्त्री.) दूध पिलानेवाली धाय, जननी, माता, उपमाता, सौतेली माँ, वर्णमाला की बारहखड़ी, काम-क्रोध आदि आठ विकारों की आठ अधिष्ठात्री देवियाँ, यथा—काम की योगेश्वरी, क्रोध की माहेश्वरी, लोभ की वैष्णवी, मद की ब्रह्माणी, मोह की कौमारी, मात्सर्य की ऐन्द्राणी, पैशुन्य की दण्डधारिणी तथा असूया की वाराही—ये अष्ट-मातृकाएँ कहलाती हैं; —गण—(पुं.) मातृकाओं का परिवार; —घाती—(वि.) माता की हत्या करनेवाला; —तीर्थ—(पुं.) कानी अँगुली का सव से नीचे का स्थान; —नंदन—(पुं.) कार्तिकेय; —निन्दक—(वि.) माता की निन्दा करनेवाला; —पूजन—(पुं.) माता की पूजा; —पूजा—(स्त्री.) विवाह की एक रीति जिसमें विवाह के एक दिन पहले पितरों का पूजन किया जाता है; —भाषा—(स्त्री.) वह भाषा जिसको बालक माता की गोद में रहते हुए सीखता है; —वृत्—(वि.) माता के समान; —वत्सल—(वि.) माता के प्रति भक्ति करनेवाला; (पुं.) कार्तिकेय; —सपत्नी—(स्त्री.) विमाता, सौतेली माता; —स्वसा—(स्त्री.) माता की वहन, मौसी; —स्वसेय—(पुं.) मौसेरा भाई ।
 मात्र—(सं. अव्य.) केवल, सिर्फ ।
 मात्रा—(सं. स्त्री.) परिमाण, एक बार सेवन करने भर औषधि, किसी वस्तु का नियमित अल्प भाग, अवयव, शक्ति, रूप, इन्द्रिय, वित्त, सम्पत्ति, स्वरसूचक रेखा

जो अक्षर में लगाई जाती है, एक ह्रस्व अक्षर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है; छन्द का ह्रस्व या दीर्घ उच्चारण-भेद; —पताका—(स्त्री.) छन्दःशास्त्र के अनुसार मात्रा का लघु-गुरु ज्ञान करने का पताका यन्त्र; —वृत्त—(पुं.) आर्या आदि छन्दों का भेद; —समक—(पुं.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं तथा अन्त में एक गुरु वर्ण होता है ।
 मात्रिक—(सं. वि.) मात्रा-संबंधी, मात्राओं की गणना से संबद्ध, जिसमें मात्राओं की गणना की जाय ।
 मात्सर्य—(सं. पुं.) ईर्ष्या, डाह ।
 माथ—(हि. पुं.) माथा ।
 माथना—(हि. क्रि. स.) मथन करना ।
 माथा—(हि. पुं.) सिर का ऊपरी भाग, मस्तक, किसी पदार्थ का अगला या ऊपरी भाग, एक प्रकार का रेशमी कपड़ा; (मूहा.)—ठनकना—किसी दुर्घटना की पहिले से आशंका होना; माथे चढ़ाना—शिरोधार्य करना; —पच्ची—(स्त्री.) अधिक मानसिक श्रम लगाना ।
 माथुर—(सं. पुं.) वह जो मथुरा से आया हो, मथुरानिवासी, कायस्थों तथा वैश्यों की एक जाति, ब्राह्मणों की चौबे जाति ।
 माथुरक—(सं. पुं.) मथुरा में रहनेवाला ।
 माथे—(हि. अव्य.) माथे पर, सिर पर, सहारे, भरोसे ।
 माद—(सं. पुं.) हर्ष, प्रसन्नता ।
 मादक—(सं. वि.) नशा उत्पन्न करनेवाला, नशीला; (पुं.) एक प्रकार का हरिण, एक प्रकार का अस्त्र; —ता—(स्त्री.) मादक होने का भाव ।
 मादन—(सं. पुं.) लवंग, कामदेव, घतूरे का पौधा; (वि.) हर्षोत्पादक, मादक ।
 मादनी—(सं. स्त्री.) विजया, भाँग ।
 मादयिष्णु—(सं. वि.) आनन्द देनेवाला ।
 मादिनी—(सं. स्त्री.) विजया, भाँग ।
 माद्रवती—(सं. स्त्री.) राजा परीक्षित की स्त्री का नाम ।
 माद्री—(सं. स्त्री.) मद्रराज की कन्या जो पाण्डुराजा को व्याही थी, (इनके पुत्र नकुल और सहदेव थे); —पति—(पुं.) राजा पाण्डु ।
 माद्रेय—(सं. पुं.) नकुल और सहदेव ।
 माघव—(सं. पुं.) विष्णु, नारायण, वसन्त ऋतु, महुवे का पेड़, काला उड़द, एक प्रकार का संकर राग, एक वृत्त का नाम जिसको मुक्तहरा भी कहते हैं;

-क-(पुं.) महुवे की मदिरा; -द्रुम-(पुं.) आम का वृक्ष; -प्रिय- (पुं.) मीला चन्दन; -श्री-(स्त्री.) वसन्त ऋतु की शोभा।
माघवी-(सं. स्त्री.) इस नाम की लता जिसमें चमेली के समान सुगन्धित फूल लगते हैं; मदिरा, मधु से बनाई हुई चीनी, तुलसी, दुर्गा, सवैया छन्द का एक भेद, एक रागिनी का नाम।
माघवीय-(सं. वि.) वसन्त-संबंधी।
माघवोद्भव-(सं. पुं.) खिरनी का पेड़।
माघी-(हिं. पुं.) एक राग का नाम।
माघकर-(सं. पुं.) महुवे का मद्य।
माघुर-(सं. वि.) मीठा; (पुं.) चमेली का फूल।
माघुरई, माघुरता-(हिं. स्त्री.) मधुरता, मिठास।
माघुरिया-(हिं. स्त्री.), **माघुरी-**(सं. स्त्री.) मद्य, शराव, सौन्दर्य, शोभा, मधुरता, मिठास।
माघुर्य-(सं. पुं.) मधुर होने का भाव, मधुरता, सुन्दरता, मिठास, काव्य में वह रचना जिससे चित्त द्रवीभूत होता है और अत्यन्त प्रसन्नता होती है, शब्दावली में मन को मोह लेनेवाला गुण; -प्रधान- (वि.) जिसमें माघुर्य गुण हो।
माघ्र्या-(हिं. पुं.) देखें 'माघव'।
माघी-(हिं. पुं.) माघव, श्रीकृष्ण, श्री-रामचन्द्र।
माघी-(हिं. पुं.) देखें 'माघव'।
माघ्यदिन-(सं. पुं.) दिन का मध्य भाग, दोपहर।
माघ्यदिनी-(सं. स्त्री.) शुक्ल यजुर्वेद की एक शाखा का नाम।
माघ्यम-(सं. वि.) मध्य का, बीच का।
माघ्यमिक-(सं. वि.) मध्य का, विचला; (पुं.) वीद्वों का एक दार्शनिक मतभेद।
माघ्यस्थ-(सं. पुं.) झगड़ा निपटानेवाला पंच, विवाह करानेवाला ब्राह्मण, कुटना, दलाल।
माघ्याकर्षण-(सं. पुं.) पृथ्वी के मध्य-भाग का वह आकर्षण जो सर्वदा सत्र पदार्थों को अपनी ओर खींचता रहता है।
माघ्याह्निक-(सं. वि., पुं.) मघ्याह्निक के समय किया जानेवाला (कार्य)।
माघ्व-(सं. पुं.) मध्वाचार्य का चलाया हुआ वैष्णव धर्म का एक सम्प्रदाय।
माघ्वक-(सं. पुं.) महुवे की मदिरा।
माघ्विक-(सं. पुं.) मधु झकट्टा करने-वाला मनुष्य।
माघ्वी-(सं. स्त्री.) मद्य, महुवे आदि की बनी हुई मदिरा।

मान-(सं. पुं.) परिमाण, तौल, संगीत-शास्त्र के अनुसार वह स्थान जहाँ ताल का विराम होता है, घन, अभिमान आदि के कारण मन में यह विकार होना कि भेरे सदृश दूसरा कोई नहीं है, सामर्थ्य, शक्ति, प्रतिष्ठा, रूठी हुई नायिका का भाव-विशेष, ग्रह, मंत्र, सम्मान; (मुहा.) -**मयना-** अभिमान नष्ट करना; -**मनाना-** जो रूठ गया हो उसको प्रसन्न करना; -**मोड़ना-** अभिमान त्याग देना; -**रखना-** प्रतिष्ठा करना।
मानकचू, **मानकंद-**(हिं. पुं.) एक प्रकार का मीठा कन्द, सालम मिस्री।
मानकलह-(सं. पुं.) मान के कारण कलह।
मानक्रीड़ा-(सं. स्त्री.) एक छन्द का नाम।
मानक्षति-(सं. स्त्री.) मानहानि।
मानगूह-(सं. पुं.) कोपमवन।
मानचित्र-(सं. पुं.) किसी स्थान या देश का चित्र, नक्शा।
मानज-(सं. पुं.) क्रोध।
मानता-(हिं. स्त्री.) मनौती, मन्नत।
मानदंड-(सं. पुं.) वह मान या साधन जिससे कोई वस्तु नापी जाय।
मानद-(सं. वि.) बड़ाई करनेवाला; (पुं.) विष्णु।
मानधन-(सं. वि.) मानी, प्रतिष्ठित।
मानना-(हिं. क्रि. स.) स्वीकार करना, कल्पना करना, मान लेना, ध्यान में लाना, खयाल करना, पर्व आदि पर विशेष कृत्य करना, किसी से बहुत प्रेम करना, धार्मिक दृष्टि से श्रद्धा या विश्वास करना, देवी या देवता की मन्नत करना, आदर करना, ठीक मार्ग पर आना।
माननीय-(सं. वि.) आदर करने योग्य, पूजनीय।
मानपरेखा-(हिं. पुं.) आशा।
मानभंग-(सं. पुं.) मानहानि।
मानभाव-(सं. पुं.) चोचला।
मानमंदिर-(सं. पुं.) ग्रहों की गति आदि देखने के लिये वैज्ञानिक यन्त्रों से सुसज्जित स्थान, वेधशाला, वह एकान्त कमरा जहाँ स्त्रियाँ रूठकर बैठती हैं, कोपमवन।
मानमनौती-(हिं. स्त्री.) मानता, रूठने और मान जाने की क्रिया, परस्पर का प्रेम।
मानमय-(सं. वि.) गर्वयुक्त, घमंडी।
मानमाव्यता-(सं. स्त्री.) प्रतिष्ठा।
मानमोचन-(सं. पुं.) साहित्य के अनुसार रूठे हुए प्रिय अथवा प्रिया को मनाना।
मानयितव्य-(सं. वि.) सम्मान करने योग्य।
मानव-(सं. पुं.) मनु की सन्तान, मनुष्य।

मानवक-(सं. पुं.) नाटा मनुष्य, वीना, तुच्छ नर।
मानवत्त्व-(सं. पुं.) मानव जाति का प्राकृतिक गुण आदि।
मानवपति-(सं. पुं.) राजा।
मानवजित-(सं. वि.) मानरहित, मानहीन।
मानवशास्त्र-(सं. पुं.) मानव जाति की उत्पत्ति तथा विकास का शास्त्र जिसके अध्ययन से संसार के भिन्न-भिन्न भागों में बसनेवाली जातियों की ऐतिहासिक सभ्यता का ज्ञान होता है; अर्थात् मनुष्यों की सृष्टि कव और कैसे हुई और मानवी सभ्यता का क्रमशः कैसे विकास हुआ।
मानवास्त्र-(सं. पुं.) प्राचीन काल का एक अस्त्र।
मानवी-(सं. स्त्री.) नारी, स्त्री; (वि.) मनुष्य-संबंधी।
मानवीय-(सं. वि.) मनुष्य संबंधी।
मानवेंद्र-(सं. पुं.) राजा।
मानस-(सं. पुं.) मन, हृदय, मनुष्य, संकल्प-विकल्प, पुष्कर द्वीप के एक पर्वत का नाम, एक नाग का नाम, कामदेव, दूत, मानसरोवर; (वि.) मन से उत्पन्न, मनोभाव, मन में विचारा हुआ; (अव्य.) मन के द्वारा।
मानसजप-(सं. पुं.) मन में ही (विना उच्चारण किये) जप करने की विधि।
मानसपुत्र-(सं. पुं.) पुराण के अनुसार वह पुत्र जिसकी उत्पत्ति इच्छा मात्र से हुई हो।
मानसपूजा-(सं. स्त्री.) किसी देवता को मन में पूजा करना जिसमें बाह्य कृत्यों की आवश्यकता नहीं होती।
मानसर-(सं. पुं.) देखें 'मानसरोवर'।
मानसरज-(सं. पुं.) चित्त में व्यथा होना।
मानसरोवर-(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध बड़ी झील जो हिमालयपर्वत की ऊँचाई पर है।
मानसयोग-(सं. पुं.) मनमंका योग, चिन्ता।
मानसशास्त्र-(सं. पुं.) मनोविज्ञान, यह शास्त्र जिसमें मानसिक क्रियाओं का विवेचन होता है अर्थात् मन किन प्रकार कार्य करता है और उसकी वृत्तियाँ किन प्रकार उत्पन्न होती हैं।
मानससंताप-(सं. पुं.) आन्तरिक दुःख।
मानससर-(सं. पुं.) मानसरोवर।
मानसहंस-(सं. पुं.) एक वृत्त का नाम जिसकी रचना भी नहीं है।
मानसिक-(सं. वि.) जो मन में या मन की कल्पना में उत्पन्न हो, मन-संबंधी; (पुं.) विष्णु।

मानसी—(सं. स्त्री.) पुराण के अनुसार एक विद्या-देवी का नाम, वह पूजा जो मन में ही की जाय; (वि.) मनु से उत्पन्न; —गंगा—(स्त्री.) गोवर्धन पर्वत के पास एक सरोवर का नाम; —व्यथा—(स्त्री.) मानसिक कष्ट ।
मानस-(सं. पुं.) एक वृत्त का नाम जिसको रणहंस या मानसहंस भी कहते हैं ।
मानहन-(सं.वि.) अप्रतिष्ठा करनेवाला ।
मानहानि-(सं. स्त्री.) अप्रतिष्ठा ।
मानहीन-(सं. वि.) जिसकी अप्रतिष्ठा हुई हो, सम्मानरहित ।
मानहो-(हि. अव्य.) मानो ।
माना-(हि.पुं.) अन्न आदि नापने का एक पात्र; (क्रि.अ.,सं.) नापना, तौलना, जाँच करना, अटना, समाना; (अव्य.) मान लिया कि ।
मानिक-(हि. पुं.) माणिक्य, पद्मराग; —खंभ—(पुं.) व्यायाम का मलखंभ, विवाह-मण्डप के बीच में गाड़ने का खंभा; —चंदी—(स्त्री.) साधारण या छोटी सुपारी; —जोड़—(पुं.) एक प्रकार का बड़ा वगला; —रेत—(स्त्री.) मानिक का चुरा जिससे सोनार गहना साफ करते हैं ।
मानित-(सं.वि.) सम्मानित, पूजित ।
मानिनी-(सं.वि.,स्त्री.) अमिमान करनेवाली या गर्ववती (स्त्री), रुष्टा स्त्री, साहित्य में वह नायिका जो अपने प्रेमी का दोष देखकर रूठ जाती हो ।
मानी-(सं.वि.) अमिमानी, गर्वी; घमंडी, अहंकारी; (पुं.) सिंह, साहित्य में वह नायक जो नायिका द्वारा अपमानित होकर रूठ गया हो; (स्त्री.) घड़ा, प्राचीन काल का मापने का एक पात्र, कुदाल, वसुला आदि का वह छेद जिसमें बेंट लगाई जाती है, चक्की के ऊपर के पाट में लगाई हुई लकड़ी जिसके बीच के छेद में कीली रहती है ।
मानुख-(हि. पुं.) देखें 'मनुष्य' ।
मानुष-(सं. पुं.) मनुष्य, मानव; (वि.) मनुष्य का ।
मानुपता-(सं.स्त्री.) मनुष्य का भाव या धर्म ।
मानुपराक्षस-(सं.पुं.) राक्षस प्रकृतिवाला मनुष्य, मनुष्य का शत्रु ।
मानुषिक-(सं. वि.) मनुष्य-संबंधी, मनुष्य का ।
मानुषी-(सं. वि.) मनुष्य-संबंधी ।
मानुष्य-(सं. पुं.) मनुष्यत्व ।
मानुस-(हि. पुं.) मनुष्य, आदमी ।
मानै-(हि. पुं.) मतलब, अर्थ ।

मानो-(हि. अव्य.) जैसे ।
मान्य-(सं. वि.) पूजनीय, सम्मान के योग्य, मान करने योग्य; (पुं.) विष्णु, शिव, महादेव; —त्व—(पुं.) सम्मान या पूजा; —मान—(वि.) मान या सम्मान के योग्य; —वती—(स्त्री.) माननीया, वह स्त्री जो सम्मान करने के योग्य हो ।
मान्या-(सं. वि.) पूजनीया, आदर करने योग्य ।
माप-(हि. स्त्री.) मापने की क्रिया या भाव, परिमाण, वह माप जिससे कोई पदार्थ मापा जाय, मान ।
मापक-(सं.पुं.) मान, माप, वह जो मापता हो, वह जिससे कोई पदार्थ मापा जाय ।
मापन-(सं.पुं.) परिमाण, तौलना, नाप ।
मापना-(हि.क्रि.अ.,सं.) किसी नियत माप से किसी पदार्थ का विस्तार, वजन आदि नापना, किसी पदार्थ का परिमाण जानने के लिये कोई क्रिया करना, नापना, मतवाला होना ।
माफ-(अ. वि.) क्षमा प्राप्त, क्षमित ।
माफिक-(अ. वि.) अनुकूल, अनुसार ।
माफी-(अ.स्त्री.) क्षमा, करमुक्त भूमि ।
माम-(सं. पुं.) मातुल, मामा, कृपण, कंजूस; (वि.) मेरा; (हि.पुं.) अहंकार, ममता, अधिकार, शक्ति ।
मामक-(सं. वि.) ममतायुक्त; (सर्व.) मेरा; (पुं.) मामा ।
मामता-(हि. स्त्री.) आत्मीयता, अपनापन, प्रेम ।
मामरी-(हि.स्त्री.) एक प्रकार का वृक्ष ।
माम(मि)ला-(हि.पुं.) घटना, कामकाज, बंधा, लेन-देन, खरीद-बेची, विवाद, मुकदमा ।
मामा-(हि.पुं.) माता का भाई ।
मामी-(हि. स्त्री.) मामा की स्त्री, माँ की भौजाई; अपने अवगुण या दोष पर ध्यान न देना ।
मामूली-(अ. वि.) साधारण ।
मार्य-(हि. अव्य.) देखें 'माँहि' ।
माय-(हि.स्त्री.) जननी, माता, माँ, किसी वृद्ध स्त्री के लिये संबोधन का शब्द ।
मायक-(हि.पुं.) माया करनेवाला, मायावी ।
मायका-(हि. पुं.) नैहर, पीहर ।
मायन-(हि.पुं.) विवाह की वह रीति जिसमें मातृका-पूजन और पितृ-निमन्त्रण होता है, इस दिन का कृत्य ।
माया-(सं. स्त्री.) छलपूर्ण रचना, इन्द्रजाल, जादू, दया, कृपा, धूर्तता, शठता, बदमाशी, प्रज्ञा, ज्ञान, लक्ष्मी,

धन, सम्पत्ति, प्रकृति, अज्ञान, अविद्या, भ्रम, गौतम बुद्ध की माता का नाम, मय दानव की कन्या का नाम जिसके गर्भ से त्रिशिरा, शूर्पणखा, खर और दूषण उत्पन्न हुए थे, इन्द्रवज्रा नामक वर्णवृत्त का एक भेद, कोई आदरणीय स्त्री, ईश्वर की वह अव्यक्त शक्ति जो उनकी आज्ञा से सब कार्य करती है, किसी देवता की लीला, शक्ति, इच्छा या प्रेरणा; (हि. स्त्री.) ममता, दया, कृपा; —कार—(पुं.) ऐन्द्रजालिक, जादूगर; —चार—(वि.) मायावी; —जीवी—(पुं.) जादूगरी से जीविका निर्वाह करनेवाला; —द—(पुं.) कुम्भीर, मगर; —देवी—(स्त्री.) बुद्धदेव की माता का नाम; —घर—(पुं.) मायावी, ऐन्द्रजालिक, जादूगर, एक प्रकार के राक्षस; —पटु—(पुं.) मायावी मनुष्य; —बीज—(पुं.) हीं नामक तान्त्रिक मन्त्र; —यंत्र—(पुं.) किसी को मोहने की विद्या; —रवि—(पुं.) संपूर्ण जाति का एक राग; —वती—(स्त्री.) कामदेव की स्त्री रति; —वाद—(पुं.) वेदान्त का वह सिद्धान्त जो ईश्वर के सिवाय संपूर्ण संसार को असत्य, अनित्य तथा असार मानता है; —वादी—(पुं.) ईश्वर के सिवाय सारी सृष्टि को अनित्य माननेवाला, वह जो संपूर्ण सृष्टि को माया या भ्रम समझता है ।
मायाविनी-(सं.स्त्री.) छल-कपट करनेवाली स्त्री, एक रागिनी ।
मायावी-(सं. वि.) छलपूर्ण, ऐन्द्रजालिक; (पुं.) बिरली, एक दानव का नाम जिसका पुत्र मय था, जादूगर, परमात्मा ।
मायास्त्र-(सं.पुं.) एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र ।
मायिक-(सं. पुं.) माजूफल, जादूगर, ऐन्द्रजालिक; (वि.) माया से बना हुआ, जाली, मायावी, बनावटी ।
मायुराज-(सं. वि.) कुबेर के एक पुत्र का नाम ।
मायूर-(सं.वि.) मयूर-संबंधी, मोर का ।
मायूरिक-(सं. पुं.) मोर पकड़कर वेचनेवाला ।
मार-(सं. पुं.) कामदेव, वध, मारण, विघ्न, बतूरा; (हि. स्त्री.) आघात, मारने की क्रिया या भाव ।
मारक-(सं. वि.) संहारक, हत्या करनेवाला, विष आदि के प्रभाव को नष्ट

करनेवाला; (पुं.) वाज पक्षी।
 मारकाट—(हिं. स्त्री.) मारने-काटने का भाव या कार्य, युद्ध, लड़ाई।
 मारकौन—(हिं. पुं.) एक प्रकार का मोटा कोरा कपड़ा।
 मारग—(हिं. पुं.) देखें 'मार्ग'।
 मारगन—(हिं. पुं.) देखें 'मार्गण', वाण, तीर, भिखमंगा।
 मारजन—(हिं. पुं.) देखें 'मार्जन'।
 मारजनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'मार्जनी'।
 मारजारक—(हिं. पुं.) मार्जार, विल्ली।
 मारजार—(हिं. पुं.) विल्ली।
 मारजित्—(सं. पुं.) वह जिसने कामदेव को जीत लिया हो, बुद्धदेव का एक नाम।
 मारट—(सं. पुं.) ऊँख की जड़।
 मारण—(सं. पुं.) वध, हत्या, जान से मार डालना, वह तान्त्रिक क्रिया जिसके द्वारा मृत्यु, व्याधि आदि अनिष्ट उत्पन्न होता है, आयुर्वेद में किसी घातु या रत्न का भस्म बनाने की क्रिया।
 मारतौल—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बड़ा हथौड़ा।
 मारना—(हिं. क्रि. स.) वध करना, प्राण लेना, आघात पहुँचाना, घातु आदि को जलाकर भस्म बनाना, अनुचित रीति से किसी वस्तु को लेना, बल या प्रभाव कम करना, निर्जीव कर देना, विजय प्राप्त करना, (गोता) लगाना, संभोग करना, डसना या काटना, बिना परिश्रम के प्राप्त करना, छिपाना, किसी आवेग को रोकना, नष्ट करना, अन्त करना, आवेग करना, वंद करना, मल्लयुद्ध में विपक्षी को हराना, ठोंकना, पीटना, टकराना; (मुहा.) गोली मारना—बंदूक से गोली चलाकर किसी जीव को मारना; जादू मारना—जादू का प्रयोग करना।
 मारपीट—(हिं. स्त्री.) मारने की क्रिया, उपद्रव, झगड़ा।
 मारपेच—(हिं. पुं.) वह युक्ति जो किसी को धोखे में रखकर उसकी हानि करे।
 मारवा—(हिं. पुं.) एक संकर राग का नाम।
 मारवाड़—(हिं. पुं.) राजपूताने का एक विशिष्ट अंचल, मेवाड़।
 मारवाड़ी—(हिं. पुं.) मारवाड़ देश का रहनेवाला; (वि.) मारवाड़ देश-संबंधी; (स्त्री.) इस देश की भाषा।
 मारवी—(सं. स्त्री.) संगीत की एक मात्रा।
 मारवीज—(सं. पुं.) एक प्रकार का मन्त्र।
 मारात्मक—(सं. वि.) संघाती, प्राणनाशक।
 मारा—(हिं. वि.) अस्त, मारा हुआ;

(मुहा.)—मारा फिरना—बिना काम के इधर-उधर भटकते रहना; —मार—(अव्य.) बड़ी तेजी, जल्दी या शीघ्रता से; (स्त्री.) देखें 'मारपीट'।
 मारिच—(हिं. पुं.) देखें 'मारीच'।
 मारित—(सं. वि.) जो मार डाला गया हो।
 मारिष—(सं. पुं.) नाटक का सूत्रधार।
 मारिषा—(सं. स्त्री.) दक्ष की माता का नाम।
 मारी—(सं. स्त्री.) चण्डी, माहेश्वरी शक्ति, ऐसा संक्रामक रोग जिसके कारण बहुत-से लोग एक साथ मरें, मरी रोग।
 मारीच—(सं. पुं.) रामायण के अनुसार रावण का भेजा हुआ वह राक्षस जिसने सोने का मृग बनकर श्रीरामचन्द्र को छला था, कश्यप, याजक, ब्राह्मण।
 मारीची—(सं. स्त्री.) मायादेवी का एक नाम।
 मारीमृत—(सं. वि.) जिसकी मृत्यु मारी से हुई हो।
 मारीष—(सं. पुं.) मरसे का साग।
 मारंड—(सं. पुं.) सर्प का अंडा, गोबर।
 मारुत—(सं. पुं.) वायु, हवा, वायु के अधिपति देवता; —सुत—(पुं.) हनुमान, भीम।
 मारुताशन—(सं. पुं.) सर्प, कार्तिकेय; (वि.) केवल हवा पीकर रहनेवाला।
 मारुताश्व—(सं. पुं.) हवा के समान वेग से दौड़नेवाला घोड़ा।
 मारुति—(सं. पुं.) हनुमान, भीम।
 मारु—(हिं. पुं.) वह राग जो युद्ध के समय गाया-बजाया जाता है, बड़ा नगाड़ा, जंगी धौंसा; (वि.) हृदय-विदारक, कष्ट देनेवाला, मारनेवाला; (हिं. पुं.) मरुदेश का रहनेवाला।
 मारुत—(सं. पुं.) हनुमान; (हिं. पुं.) घोड़े के पिछले पैर की एक भौरी।
 मारे—(हिं. अव्य.) के कारण।
 मार्कंडेय—(सं. पुं.) मुकुण्ड ऋषि के पुत्र जो अपने तपोबल से मृत्यु को परास्त करके चिरजीवी हुए हैं, जन्मदिन तथा संस्कारादि के कृत्यों में इनकी पूजा की जाती है।
 मार्कट—(सं. पुं.) मकंद-संबंधी।
 मार्का—(हिं. पुं.) संकेत, कोई अंक या चिह्न जो किसी विशय बात का सूचक हो।
 मार्ग—(सं. पुं.) पथ, मृगमद, कस्तूरी, अगहन का महीना, मृगशिरा नक्षत्र, अन्वेषण, खोज, विष्णु।
 मार्गक—(सं. पुं.) अगहन का महीना।
 मार्गण—(सं. पुं.) अन्वेषण, ढूँढना, परीक्षा करना, प्रार्थना; (पुं.) भिखमंगा, शर, वाण।

मार्गणता—(सं. स्त्री.) याचकता।
 मार्गतोरण—(सं. पुं.) मार्गपर वना हुआ फाटक।
 मार्गधेनु—(सं. पुं.) एक योजन का विस्तार।
 मार्गन—(हिं. पुं.) देखें 'मार्गण'।
 मार्गपाली—(सं. स्त्री.) स्तम्भ, खंभा।
 मार्गबंध—(सं. पुं.) मार्ग रोकना।
 मार्गरक्षक—(सं. पुं.) पथका रक्षक या पहरेदार।
 मार्गशाखी—(सं. पुं.) मार्ग पर लगाये हुए वृक्ष।
 मार्गशीर्ष—(सं. पुं.) अगहन का महीना।
 मार्गिक—(सं. पुं.) पथिक, यात्री।
 मार्गित—(सं. वि.) अन्वेषित, खोजा हुआ।
 मार्गितव्य—(सं. वि.) अन्वेषण या खोज करने योग्य।
 मार्गी—(सं. पुं.) मार्ग पर चलनेवाला, यात्री, संगीत में एक मूर्च्छना का नाम।
 मार्गश—(सं. पुं.) मार्गरक्षक।
 मार्ग्य—(सं. वि.) मार्जनीय, मार्जन करने योग्य।
 मार्जक—(सं. वि.) निर्मल करनेवाला; (पुं.) रजक, धोबी।
 मार्जन—(सं. पुं.) स्वच्छ करने का काम, वैदिक संख्या करते समय मन्त्र पढ़कर शरीर पर जल छिड़कना।
 मार्जना—(सं. स्त्री.) मार्जन, स्वच्छता, मृदंग का बोल, क्षमा।
 मार्जनी—(सं. स्त्री.) झाड़ू।
 मार्जनीय—(सं. वि.) मार्जन करने योग्य।
 मार्जार—(सं. पुं.) विलाव, विल्ली।
 मार्जारक—(सं. पुं.) मयूर, मोर, विल्ली।
 मार्जारी टोडी—(हिं. स्त्री.) सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी।
 मार्जित—(सं. वि.) मार्जन किया हुआ, स्वच्छ किया हुआ।
 मार्तंड—(सं. पुं.) शूकर, सुवर्णमाक्षिक, आक सूर्य; —मूल—(पुं.) अकवन की जड़।
 मार्त्य—(सं. वि.) नश्वर, मर्त्य।
 मार्दव—(सं. पुं.) दूसरे को दुःखी देखकर स्वयं दुःखी होना, अहंकाररहित होना, सरलता।
 मार्दवीकृत—(सं. वि.) कोमल किया हुआ।
 मार्मिक—(सं. वि.) मर्मस्पर्शी, मर्म-स्थान पर प्रभाव डालनेवाला; —ता—(स्त्री.) मार्मिक होना का भाव, किसी वस्तु के मर्म तक पहुँचने का भाव।
 माल—(सं. पुं.) वन, जंगल, क्षेत्र, कपट, हरताल, म्लेच्छ जाति, विष्णु; (हिं. स्त्री.) माला, हार, पंक्ति, चरखे के टुकुए को घुमाने की रस्ती, वह द्रव्य जिससे कोई वस्तु बनी हो, युवती स्त्री, गणित में वर्ग

का घात; (अ.पुं.) स्वादिष्ट भोजन, खेत की मालगुजारी, धन, सम्पत्ति, सामग्री, क्रय-विक्रय के पदार्थ, वाणिज्य की सामग्री; (हि.पुं.) मल्ल; (मुहा.)
 -चोरना-दूसरे का धन हरण करना।
 मालकंगनी-(हि.स्त्री.) वृक्षों पर फैलने-वाली एक पहाड़ी लता जिसके बीजों से तेल निकाला जाता है।
 मालका-(सं.स्त्री.) माला।
 मालकुंडा-(हि.पुं.) नील रखने का मटका।
 मालकोश-(सं.पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग जिसको कौशिक राग भी कहते हैं।
 मालकोस-(हि.पुं.) देखें 'मालकोश'।
 मालगाड़ी-(हि.पुं.) वह रेलगाड़ी जिसमें केवल माल (वाणिज्य-वस्तु) भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है।
 मालगुजारी-(अ.स्त्री.) भूमिकर, लगान।
 मालगुजरी-(सं.स्त्री.) सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी।
 मालगोदाम-(हि.पुं.) वह स्थान जहाँ व्यापार का माल जमा रखा जाता है, रेल के स्टेशनों पर वह स्थान जहाँ मालगाड़ी से भेजा जानेवाला अथवा आया हुआ माल रहता है।
 माल-टाल-(हि.पुं.) धन-संपत्ति।
 मालतिका-(सं.स्त्री.) कार्तिकेय की एक अनुचरी।
 मालती-(सं.स्त्री.) वृक्षों आदि पर फैलने-वाली एक लता जिसमें सुगंधित सफेद फूल होते हैं, युवती, बारह अक्षरों के एक वर्णिक वृत्त का नाम, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में छः अक्षर होते हैं; रात्रि, चांदनी, पाठालता, जायफल का वृक्ष; -टोडी-(स्त्री.) सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी; -पत्रिका-(स्त्री.) जावित्री; -फल-(पुं.) जायफल।
 मालदह-(हि.पुं.) एक प्रकार का आम जो पूरबी विहार प्रान्त में अधिक होता है।
 मालदही-(हि.स्त्री.) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा, एक प्रकार की छाजन या छप्पर लगी हुई नाव।
 मालद्वीप-(हि.पुं.) हिंद महासागर के अन्तर्गत सिंहल के समीप एक द्वीपपुंज।
 भालपूआ, मालपूवा-(हि.पुं.) एक प्रकार का मीठा पकवान जो पूरी की तरह घी में छाना जाता है।
 मालवरी-(हि.स्त्री.) एक प्रकार की ईख।
 मालभंडारी-(हि.पुं.) जहाज।
 माल्य-(सं.पुं.) गरुड़ के एक पुत्र का

नाम; व्यापारियों का झुंड, वह स्थान जहाँ कोई प्रेमी अपनी नायिका से मिलता है, पञ्चकाष्ठ, श्रीखंड, चंदन; (वि.) मलयगिरि संबंधी।
 मालव-(सं.पुं.) अवन्ति देश, मालवा देश, एक राग का नाम जिसको मैरव भी कहते हैं, मालवा का निवासी; -रू-(पुं.) मालवा का रहनेवाला; -गौड़-(पुं.) एक संकर राग का नाम; -श्री-(स्त्री.) श्रीराग की एक रागिनी का नाम।
 मालवा-(हि.पुं.) मध्य भारत का एक प्रदेश।
 मालवी-(सं.स्त्री.) श्रीराग की एक रागिनी।
 मालवीय-(सं.वि.) मालवा देश-संबंधी, मालवा देश का; (पुं.) मालवा का रहने-वाला, ब्राह्मणों की एक उपजाति।
 मालसी-(सं.स्त्री.) एक रागिनी का नाम।
 माला-(सं.स्त्री.) श्रेणी, पंक्ति, आवलि, गले में पहिने का फूलों का हार, गजरा, जपमाला, सुमरनी, एक प्रकार की दूब, मुड़आमला, उपजाति छन्द का एक भेद; (मुहा.)-फेरना-जप करना; उलटी माला फेरना-किसी का अहित चाहना; -कार-(पुं.) माला बनानेवाला, माली; -गुण-(पुं.) माला गूँथने का सूत, गले में पहिने का गहना; -दोपक-(पुं.) एक अर्थालंकार जिसमें पूर्वकथित वस्तुको उसमें होनवाले उत्तरोत्तर उत्कर्ष का हेतु बतलाया जाता है; -घर-(वि.) माला धारण करनेवाला; (पुं.) सत्रह अक्षरों के एक वर्णिक वृत्त का नाम; -फल, -मणि-(पुं.) रुद्राक्ष।
 मालामाल-(अ.वि.) धन-धान्य से पूर्ण।
 मालिका-(सं.स्त्री.) पंक्ति, माला, चमेली, अंगूर का मद्य, मालिन।
 मालिनी-(सं.स्त्री.) मालिन, गीरी, गंगा, प्राचीन चम्पा नगरी, एक मातृका का नाम, जवासा का पीघा, स्कन्द की सात माताओं में से एक, एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में पन्द्रह अक्षर होते हैं द्रौपदी का एक नाम, मदिरा नाम का वृत्त।
 मालिन्य-(सं.पुं.) मलिनता, अन्वकार, अँधेरा, पाप, बुरी वृत्ति।
 मालिया-(हि.पुं.) मोटे रस्सों में दी जानेवाली एक प्रकार की गाँठ।
 मालिवान-(हि.पुं.) देखें 'माल्यवान'।
 माली-(हि.पुं.) फूल बेचनेवाली जाति-विशेष, वह जो बगीचों में पेड़ लगाने और सींचने का काम करता है; वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सुकेश राक्षस

के पुत्र का नाम, एक छन्द जिसका दूसरा नाम राजीवगण है; (वि.) माला पहिने हुए, (फा.वि.) आर्थिक, धनसंबंधी।
 मालीय-(सं.वि.) माली-संबंधी, माली का।
 मालू-(सं.पुं.) वृक्ष पर चढ़नेवाली एक लता का नाम।
 मालूम-(अ.वि.) ज्ञात, विदित।
 मालूर-(सं.पुं.) कैथ का वृक्ष, बेल का पेड़।
 मालेया-(सं.स्त्री.) बड़ी इलायची।
 मालोपमा-(सं.स्त्री.) उपमा अलंकार का एक भेद जिसमें एक उपमेय के अनेक उपमान होते हैं तथा प्रत्येक उपमान के धर्म मिला होते हैं।
 माल्य-(सं.पुं.) पुष्प, फूल, गले में धारण करने की माला; -जीवक-(पुं.) मालाकार, माली; -वती-(वि.) माला पहिने हुए; -वान्, -वंत-(पुं.) पुराणों के अनुसार एक पर्वत का नाम, सुकेश के पुत्र का नाम जो एक राक्षस था, (यह माली और सुमाली का माई था।)
 मावली-(हि.पुं.) दक्षिण भारत की एक पहाड़ी वीर जाति, (शिवाजी की सेना में इस जाति के अधिक सैनिक थे।)
 मावा-(हि.पुं.) पीच, माँड़, सत्व, प्रकृति, खोया, अंडे के भीतर का रस, मसाला।
 माश-(हि.पुं.) देखें 'माष'।
 माशा-(हि.पुं.) एक तोले का बारहवाँ भाग, आठ रत्ती का एक मान या बाट।
 माशी-(हि.पुं.) एक प्रकार का रंग जो कालापन लिये हरा होता है।
 माष-(सं.पुं.) उड़द, परिमाण विशेष, माशा, शरीर पर का मसा जो काले रंग का होता है; -रू-(पुं.) पाँच रत्ती का परिमाण, उड़द; -पर्णी-(स्त्री.) जंगली उड़द; -वटो-(स्त्री.) उड़द की बड़ी।
 माषाद-(सं.पुं.) कच्छप, कछआ।
 मास-(सं.पुं.) वर्ष का बारहवाँ भाग, महीना, (जितने दिनों तक सूर्य एक राशि में रहता है वह सौर-मास कहलाता है। तिथि के अनुसार मास को चान्द्र-मास कहते हैं); -जात-(वि.) जिसको उत्पन्न हुए केवल एक महीना हुआ हो; -पूर्व-(अव्य.) एक महीना पहिले; -प्रवेश-(पुं.) महीने का आरम्भ होना।
 मासना-(हि.क्रि.अ.,सं.) मिलना, मिलाना।
 मासवृद्धि-(हि.स्त्री.) अण्डवृद्धि का रोग, गलगण्ड, घेघा।
 मासल-(हि.वि.) देखें 'मांसल', हूष्ट-पुष्ट।
 मासांत-(सं.पुं.) एक महीने का अन्त, अमावस्या, संक्रान्ति का दिन।

मासा—(हि. पुं.) देखें 'माशा' ।
 मासिक—(हि. वि.) मास-संबंधी, महीने का, महीने में एक बार होनेवाला; (पुं.) मासिक वेतन, पत्रिका आदि ।
 मासी—(हि. स्त्री.) मां की वहिन, मौसी ।
 मासुरी—(सं. स्त्री.) मासी, मौसी, चीर-फाड़ का एक प्राचीन अस्त्र ।
 मासोपवास—(सं. स्त्री.) एक महीने तक का अनशन, व्रत ।
 माह—(हि. पुं.) माघ, उड़द; (फा. पुं.) महीना ।
 माहत—(सं. पुं.) महत्त्व, बड़ाई ।
 माहन—(सं. पुं.) ब्राह्मण ।
 माहना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'उमाहना' ।
 माहनीय—(सं. वि.) पूजनीय, श्रेष्ठ ।
 माहली—(हि. पुं.) वह सेवक जो अन्तःपुर में आता-जाता हो, सेवक, दास ।
 माहाँ, माहँ—(हि. अव्य.) देखें 'महँ' ।
 माहाकुल—(सं. वि.) जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो ।
 माहात्मिक—(सं. वि.) महात्मा-संबंधी ।
 माहात्म्य—(सं. पुं.) महिमा, बड़ाई, महत्त्व, गौरव, आदर, सम्मान ।
 माहाराज्य—(सं. पुं.) महाराज का पद या भर्षादा ।
 माहाराष्ट्र—(सं. वि.) महाराष्ट्र-संबंधी ।
 माहि—(हि. अव्य.) भीतर, में, पर ।
 माहिर—(अ. वि.) निपुण, गुण में बड़ा हुआ ।
 माहिला—(हि. पुं.) मल्लाह, मांझी ।
 माहिय—(सं. वि.) भंस-संबंधी, भंस का ।
 माहियिक—(सं. पुं.) व्यभिचारिणी स्त्री का पति ।
 माहिमती—(सं. स्त्री.) भारतवर्ष की एक अति प्राचीन नगरी का नाम जो दक्षिण देश में थी ।
 माहीं—(हि. अव्य.) देखें 'माहँ' ।
 माहुर—(हि. पुं.) विप, गरल ।
 माहद्र—(सं. वि.) जिसका पूज्य देवता इन्द्र हो, इन्द्र-संबंधी; (पुं.) एक अस्त्र का नाम ।
 माहद्री—(सं. स्त्री.) इन्द्राणी, इन्द्र की शक्ति, गाय, सात मातृकाओं में से एक ।
 माहेय—(सं. वि.) मिट्टी का बना हुआ; (पुं.) मंगल ग्रह, विद्रुम, मूंगा ।
 माहेश—(सं. वि.) महेश-संबंधी ।
 माहेशी—(सं. स्त्री.) दुर्गा ।
 माहेश्वर—(सं. वि.) महेश्वर-संबंधी; (पुं.) एक यज्ञ का नाम, एक उपपुराण का नाम, वैव संप्रदाय का एक नैद्य, एक अस्त्र का नाम, पाणिनि के अशुद्ध, कटुक आदि तीव्र मूत्र जिनमें म्ल और व्यजन वर्गों का संग्रह प्रत्याहारार्थ

क्रिया गया है ।
 माहेश्वरी—(सं. स्त्री.) दुर्गा, एक मातृका का नाम, वैश्यों की एक जाति ।
 मि—(पुं.) चीन देश की एक जाति का नाम ।
 मिंगनी—(हि. स्त्री.) देखें 'मिंगनी' ।
 मिंगी—(हि. स्त्री.) देखें 'मिंगी' ।
 मिड़ाई—(हि. स्त्री.) मीड़न या मींजने की क्रिया या भाव, मींजने का शुक, छोट की छपाई में एक क्रिया जो कपड़ को छापने के बाद और धोने के पहले की जाती है ।
 मिहदी—(हि. स्त्री.) देखें 'मैहदी' ।
 मिआद—(हि. पुं.) नियत काल या समय ।
 मिआदी—(हि. वि.) नियत काल पर होनेवाला ।
 मिचकना—(हि. क्रि. अ.) पलकों का झपकना या बंद होना ।
 मिचकाना—(हि. क्रि. स.) बार-बार आंखें खोलना या बंद करना, आंखें मटकाना ।
 मिचकी—(हि. स्त्री.) छलांग ।
 मिचना—(हि. क्रि. अ.) आंखों का बंद होना ।
 मिचलाना—(हि. क्रि. अ.) ओकाई आना, मतली आना ।
 मिचली—(हि. स्त्री.) जो मिचलाने की क्रिया, मतली ।
 मिचोनी—(हि. स्त्री.) आंख मिचोली ।
 मिजाज—(अ. पुं.) प्रकृति, स्वभाव, आदत, धमंड, गर्व; (मूहा.)—न मिलना-धमंड के मारे किसी से बात न करना;—होना-धमंड होना ।
 मिजाजदार—(अ. वि.) धमंडी ।
 मिजाजी—(हि. वि.) धमंडी, अभिमानी ।
 मिटका—(हि. पुं.) देखें 'मटका' ।
 मिटना—(हि. क्रि. अ.) किसी अंचित चिह्न आदि का लुप्त हो जाना, नष्ट होना, न रह जाना ।
 मिटाना—(हि. क्रि. स.) (रेखा, चिह्न आदि को) दूर करना या हटाना, नष्ट कर देना, रहने न देना ।
 मिटिया—(हि. स्त्री.) मिट्टी का छोटा बरतन, मटकी; (वि.) मिट्टी का बना हुआ ।
 मिटियाना—(हि. क्रि. स.) मिट्टी लगाकर स्वच्छ करना, रगड़ना या चिक्काना ।
 मिटिया-महल—(हि. पुं.) मिट्टी का घर, झोपड़ी ।
 मिट्टी—(हि. स्त्री.) पृथ्वी, मृमि, जमीन, राग, मस, फूल, शरीर, देह, जव, गाली की बना कद, चन्दन का तेल या द्रव जिम्मे गोंग में दूसरे द्रव बनाये जाते हैं; (महा.)—करना—नाष्ट करना;—का पुतना—

मनुष्य का शरीर;—खराबी—दुंदसा. नाश;—के मोल—बहुत सस्ते दाम पर;—डालना—किसी दोष को छिपा देना;—देना—कत्र में मुरदा रखने के बाद उसमें लोगों का थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालना, कत्र में गाड़ना;—पलीद करना—दुंदसा करना;—मिट्टी में मिलना—पूरी तरह से नष्ट-भ्रष्ट हो जाना;—का तेल—(पुं.) एक तरल खनिज पदार्थ जो दीपक जलाने आदि के काम में आता है;—का फूल—(पुं.) मृमि पर जमनेवाला एक प्रकार का शार, रेह ।
 मिट्ठा—(हि. वि.) देखें 'मीठा' ।
 मिट्ठी—(हि. स्त्री.) चूवन, चूमा ।
 मिट्टू—(हि. वि.) मीठा बोलनेवाला, चुप रहनेवाला, न बोलनेवाला, मधुरभाषी; (पुं.) तोता ।
 मिठ—(हि. वि.) 'मीठा' शब्द का संक्षिप्त रूप, इसका व्यवहार प्रायः योगिक शब्द बनाने में कुछ शब्दों के पहिले किया जाता है;—बोलवा, —बोला—(वि.) मधुरभाषी, मीठा बोलनेवाला;—लोना—(वि.) जिसमें कम तक पड़ा हो ।
 मिठाई—(हि. स्त्री.) मीठा होने का भाव, मिठास, खाने की कोई भीठी वस्तु, कोई अच्छा पदार्थ ।
 मिठास—(हि. स्त्री.) मीठा होने का भाव, भाष्य, मीठापन ।
 मिठोरी—(हि. स्त्री.) पीसे हुए उड़द या चने की बनी हुई बरी ।
 मिड़ाई—(हि. स्त्री.) देखें 'मिड़ाई' ।
 मितंग—(हि. पुं.) हस्तो, हाथी ।
 मित—(सं. वि.) परिमित, जो मोमा के नीतर हो, कम, थोड़ा, थिल, फँसा हुआ; (हि. पुं.) मिय;—भाषी—(वि.) स्वभावभाषी, थोड़ा बोलनेवाला;—भुर—(वि.) थोड़ा गानेवाला;—मति—(वि.) अल्पमति, थोड़ी बुद्धिवाला;—य्यव—(पुं.) कम परम करना;—य्ययिता—(स्त्री.) कम व्यय;—य्ययी—(वि.) परिमित व्यय करनेवाला;—यापी—(वि.) बहुत कम मानेवाला ।
 मिताई—(हि. स्त्री.) मिठा, योगी ।
 मिताभरा—(सं. स्त्री.) मिठा-भरा-मिठा की टीका जिसको मिठा-भरा में मिलाया था ।
 मिताभार—(सं. पुं.) परिमित भारभर ।
 मितायें—(सं. पुं.) परिमित रूप, बड़ा हुआ जो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बनाया गया है ।

मितार्थक—(सं. वि.) कम अर्थ का ।
 मितानशन—(सं.वि.) कम भोजन करनेवाला ।
 मितानी—(सं. वि.) अल्पभोजी ।
 मितानहार—(सं. पुं.) थोड़ा भोजन ।
 निति—(सं.स्त्री.) मान, परिमाण, सीमा, विभाग ।
 मिति—(हिं.स्त्री.) महीने की तिथि जब तक व्याज देना हो; (क्रि.पुं.)—पूजना—हुंडी देन का नियत काल बीतना ।
 मित्र—(सं. पुं.) साथी, सखा, पुराण के अनुसार वारह आदित्यों में से एक, आर्य जाति के एक प्राचीन देवता, एक मरुत; -करण—(पुं.) मित्रता करना; -घन—मित्र की हत्या करनेवाला, विश्वासघातक; -ता—(स्त्री.) मित्र होने का भाव ।
 मिथुन—(सं. पुं.) मैथुन, संभोग, वारह राशियों में से तीसरी राशि ।
 मिथ्या—(सं. स्त्री.) झूठ, असत्य; -चर्या—(स्त्री.) कपटाचरण; -वादी—(वि., पुं.) झूठ बोलनेवाला ।
 मिनट—(अं. पुं.) घंटे का साठवाँ भाग ।
 मिमिथाना—(हिं. क्रि. अ.) में-में करना (बकरी का) ।
 मिरगी—(हिं. स्त्री.) एक मानस रोग, मूर्छा रोग ।
 मिरचा—(हिं. पुं.) लाल मिर्च ।
 मिर्च—(हिं.स्त्री.) काले रंग का गोल दाना जो स्वाद में कटु होता है, लाल मिर्च ।
 मिलकी—(हिं.पुं.)जिसके पास भूसम्पत्ति हो, जमींदार, जिसके पास धनसम्पत्ति हो ।
 मिलन—(सं. पुं.) समागम, भेंट, मिश्रण, मिलावट; -सार—(हिं. वि.) जो सब से प्रेमपूर्वक मिलता हो, सब से हेलमेल रखनेवाला; -सारी—(हिं. स्त्री.) सुशीलता, सब से प्रेमपूर्वक मिलन का गुण; -स्थान—(स्त्री.) मिलने का स्थान ।
 मिलना—(हिं.क्रि. अ., स.) दो भिन्न-भिन्न पदार्थों का एक होना, सम्मिलित होना, आलिंगन करना, छाती से लगाना, किसी पक्ष में होना, संभोग करना, बाजों का वजन के पहले सुरों का मेल होना, मेल-मिलाप होना, (गुण, आकृति आदि का) समान होना, सटना, चिपकना, लाभ होना, सामने आना, भेंट होना, प्राप्त होना; मिलता-जुलता—(वि.) समान, एकसा; मिला-जुला—(वि.) मिश्रित ।
 मिलनी—(हिं. स्त्री.) विवाह की एक रीति जिसमें कन्या-पक्ष के लोग वर-पक्ष के लोगों से गले मिलते और उनको कुछ रुपये नेग देते हैं ।

मिलवाई—(हिं. स्त्री.) मिलवाने की क्रिया या भाव ।
 मिलवाना—(हिं.क्रि.स.) मिलने या मिलाने का काम दूसरे से कराना, दूसरे को मिलने में प्रवृत्त करना, भेंट या परिचय कराना, मेल कराना, सम्भोग कराना ।
 मिलाई—(हिं. स्त्री.) मिलने की क्रिया या भाव, जाति से बहिष्कृत व्यक्ति को पुनः जाति में मिलाने का काम, देख 'मिलनी' ।
 मिलान—(हिं. पुं.) मिलाने की क्रिया या भाव, ठीक होने की जाच, तुलना ।
 मिलाना—(हिं. क्रि. स.) मिश्रण करना, एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ डालना, भिन्न-भिन्न पदार्थों को एक में करना, मेल कराना, किसीको अपने पक्ष में करना, परिचय या भेंट कराना, सम्भोग कराना, सटाना, चिपकाना, संलग्न या संयुक्त करना, बराबर करना, यह देखना कि प्रतिलिपि मूल के अनुसार है या नहीं, अपना साथी या भेदिया बनाना ।
 मिलाप—(हिं. पुं.) मिलने की क्रिया या भाव, मित्रता, सम्भोग, भेंट, मिलाई ।
 मिलाव—(हिं. पुं.) मिलाने की क्रिया या भाव, मिलाप, मिलावट ।
 मिलावट—(हिं. स्त्री.) मिलाये जाने का भाव, किसी अच्छी वस्तु में घटिया वस्तु का मेल ।
 मिलावटक—(सं. पुं.) एक प्रकार का सर्प ।
 मिलित—(सं.वि.) सटा हुआ, मिला हुआ ।
 मिलोना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'मिलाना', गाय का दूध दूहना; (पुं.) बालू मिली हुई एक प्रकार की अच्छी मिट्टी ।
 मिलोनी—(हिं. स्त्री.) मिलनी की रस्म, (विवाह की एक प्रथा), मिलाने की क्रिया या भाव, मिलावट ।
 मिशि—(सं. स्त्री.) मचुरिका, सौंफ, मेथी, जटामासी या बालछड़ ।
 मिश्र—(सं. पुं.) रक्त, लोह, सन्निपात, ज्योतिष के अनुसार एक गण का नाम, ब्राह्मणों के वर्ग की एक उपाधि जो कान्यकुब्ज, सरयूपारी तथा सारस्वत ब्राह्मणों में होती है; (वि.) मिश्रित, मिला हुआ, श्रेष्ठ, बड़ा, गणित में भिन्न-प्रकार की संख्याओं से संबद्ध; -क—(पुं.) जसद, जस्ता, खारी नमक, मूली; -केशी—(स्त्री.) एक अप्सरा जो मेनका की सखी थी; -ज—(पुं.) वह जो भिन्न जातियों के मिश्रण से उत्पन्न हो, खच्चर; -जाति—(स्त्री.) वर्णसंकर, दोगला; -ण—(पुं.) दो या अधिक पदार्थों को एक

में मिलाने की क्रिया, जोड़ने की क्रिया, मिलावट, संयोजन; -व्यवहार—(पुं.) गणित की एक क्रिया ।
 मिश्रित—(सं.वि.) सम्मिलित, मिलाया हुआ ।
 मिश्री—(हिं. स्त्री.) देखें 'मिसरी' ।
 मिश्रीकरण—(सं. पुं.) मिलाने की क्रिया ।
 मिश्रीभूत—(सं. वि.) मिलाया हुआ ।
 मिश्रीवदन—(सं. पुं.) खिचड़ी ।
 मिष—(सं. पुं.) छल, कपट, बहाना, हीला, ईर्ष्या, डाह, स्पर्धा, होड़ ।
 मिषिका—(सं. स्त्री.) मधुरिका, सौंफ ।
 मिष्ट—(सं. पुं.) मीठा रस; (वि.) मधुर, मीठा; -पाक—(पुं.) मिष्टान्न, मुरब्बा; -पाचक—(पुं.) अच्छा भोजन बनानेवाला; -भाषी—(वि.) मधुर बोलनेवाला ।
 मिष्टान्न—(सं.पुं.) मिष्ट, पकवान, मिठाई ।
 मिस—(हिं. पुं.) बहाना, हीला, पाखंड ।
 मिसन—(हिं.स्त्री.) बालू मिली हुई मिट्टी ।
 मिसना—(हिं. क्रि. अ.) मिश्रित होना, मला जाना, मीजा जाना, देखें 'मिलना' ।
 मिसरी—(हिं. पुं.) मिस्र देश का निवासी; (स्त्री.) मिस्र देश की भापा, स्वच्छ करके जमाई हुई सफ़द चीनी ।
 मिसि—(सं.स्त्री.) सौंफ, जटामासी, खस ।
 मिसिल—(अ. स्त्री.) मुकदमे से संबंधित कागज-पत्र जो इकट्ठा करके नत्थी कर दिये गये हों ।
 मिसिरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'मिसरी' ।
 मिसिली—(हिं. वि.) जिसके विषय में न्यायालय में कोई मिसिल बन चुकी हो, जिसको न्यायालय से दण्ड मिल चुका हो ।
 मिस्तर—(हिं. पुं.) लकड़ी का वह उपकरण जिससे राज पलस्तर करते हैं ।
 मिस्तरी—(हिं. पुं.) कुशल कारीगर ।
 मिस्ता—(हिं. पुं.) बंजर भूमि, अन्न को दाँवने के लिय बनाई हुई भूमि ।
 मिस्र—(अ.पुं.) अफ्रीका के पूर्वोत्तर भाग का एक प्रसिद्ध देश ।
 मिस्री—(हिं. स्त्री.) देखें 'मिसरी' ।
 मिस्सा—(हिं. पुं.) मूंग, मोठ आदि का भूसा, कई तरह की दालों को पीस कर बनाया हुआ आटा ।
 मिहिर—(सं. पुं.) विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मेघ, बादल, ताँवा, अर्क वृक्ष ।
 मिहिरकुल—(सं.पुं.) प्राचीन शाकल प्रदेश के प्रसिद्ध राजा तौरमाण के पुत्र का नाम ।
 मींगी—(हिं. स्त्री.) गूदा, गिरी ।
 मीजना—(हिं.क्रि.स.) हाथों से मलना,

मसलना ।

मीड़-(हि. स्त्री.) संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय मध्य का अंश इस चातुरी से बजाना या गाना जिसमें दोनों स्वरों के बीच का संबंध स्पष्ट हो जाय और यह न जान पड़े कि गाने-वाला एक स्वर से कूदकर दूसरे स्वर पर चला गया है, गमक ।

मीड़क-(हि. पुं.) मेंढक ।

मीड़ना-(हि. क्रि. स.) हाथों से मलना, मसलना ।

मीआ(या)द-(अ. स्त्री.) नियत समय या काल, मियाद ।

मीआ(या)दी-(हि. वि.) जिसके लिये कोई समय या अवधि निर्धारित हो ।

मीआदी हुंडी-(हि. स्त्री.) वह हुंडी जिसका रुपया निर्धारित अवधि पर देना पड़े ।

मीच, मीचु-(हि. स्त्री.) मृत्यु ।

मीचना-(हि. क्रि. स.) आँख बंद करना या मूँदना ।

मीचु-(हि. स्त्री.) मृत्यु ।

मीजना-(हि. क्रि. स.) देख 'मीजना', मसलना ।

मीजान-(अ. पुं.) जोड़, जमा ।

मीटना-(हि. क्रि. स.) देखें 'मीचना' ।

मीठा-(हि. वि.) जो स्वाद में मधुर और प्रिय हो, सुस्वादिविष्ट, हलका, धीमा, सुस्त, बहुत सीधा, किसी का अनिष्ट न करनेवाला, प्रिय, रुचिकर, मधुर-भापी, नपुंसक; (पुं.) मीठा खाद्य, मिठाई, गुड़, हलुवा, मीठा नीबू, वछनाग, एक प्रकार का कपड़ा; -आलू-(पुं.) शकरकन्द; -कद्दू-(पुं.) कुम्हड़ा; -चावल-(पुं.) मीठा भात; -जीरा-(पुं.) सौंफ; -ऊग-(पुं.) झूठा और कपटी मित्र; -तेल-(पुं.) तिल या पोस्ते के दाने का तेल; -पानी-(पुं.) शक्कर तथा नीबू का सत मिला हुआ पानी; -प्रमेह-(पुं.) मधुमेह; मीठी छुरी-(स्त्री.) कपटी मित्र; मीठी मार-(स्त्री.) भीतरी मार जिसमें बाहर से चोट के चिह्न न दिखाई दे; मीठी लकड़ी-(स्त्री.) मुलेठी ।

मीड़-(हि. स्त्री.) देखें 'मीड़' ।

मीत-(हि. पुं.) मित्र ।

मीन-(सं. पुं.) मत्स्य, मछली, मेपादि राशियों में बारहवीं या अन्तिम राशि; -केतन-(पुं.) कन्दर्प, कामदेव; -मेख निकालना-दोष निकालना ।

मीना-(सं. स्त्री.) उषा की कन्या का

नाम जिसका विवाह कश्यप से हुआ था; (पुं.) राजपूताना की एक वीर जाति का नाम, गहनों पर रंग चढ़ाना ।

मीनाक्ष-(सं. वि.) मछली के समान सुन्दर आँखोंवाला ।

मीनार-(हि. स्त्री.) बहुत ऊँचा स्तंभ ।

मीनालय-(सं. पुं.) सागर, समुद्र ।

मीमांसक-(सं. पुं.) मीमांसा-शास्त्र को जाननेवाला, किसी प्रश्न की मीमांसा या निर्णय करनेवाला मनुष्य ।

मीमांसा-(सं. स्त्री.) विचारपूर्वक तत्त्व-निर्णय, छः दर्शनों में से एक जिसके दो विभाग हैं, जैमिनि ऋषिकृत पूर्वमीमांसा तथा व्यासकृत उत्तर-मीमांसा जो वेदान्त के नाम से प्रसिद्ध हैं ।

मीमांसित-(सं. वि.) विचारपूर्वक मीमांसा किया हुआ ।

मीमांस्य-(सं. वि.) जिसकी मीमांसा करनी हो ।

मीराबाई-(हि. स्त्री.) मेवाड़ के एक अधिपति महाराणा कुंभ की स्त्री का नाम जो कृष्ण की अनन्य उपासिका थी ।

मील-(हि. पुं.) १७६० गज की दूरी ।

मीलन-(सं. पुं.) आँखें मूँदना, सिकोड़ना ।

मीलित-(सं. वि.) बंद किया हुआ, सिकोड़ा हुआ; (पुं.) वह अलंकार जिसमें प्रभाव अव्यक्त होने के कारण नहीं जान पड़ता, अतः उसका छिप जाना दिखाया जाता है ।

मीवर-(सं. वि.) पूज्य, माननीय ।

मूंगना-(हि. पुं.) सहिजन का वृक्ष ।

मूंगरा-(हि. पुं.) काठ का बड़ा हथौड़ा, नमकीन बुंदिया ।

मूंगिया-(हि. पुं.) एक प्रकार का घारी-दार कपड़ा, चारखाना ।

मूंगोरी-(हि. पुं.) मूंग की बनी हुई बरी ।

मूचन-(सं. पुं.) मोचन, परित्याग ।

मूचना-(हि. क्रि. अ., स.) मुक्त होना या करना ।

मूज-(सं. पुं.) मूज नामक घास; -केशी-(पुं.) शिव, महादेव, विष्णु; -मणि-(पुं.) पुखराज ।

मूजर-(सं. पुं.) मृणाल, कमल की जड़ ।

मूड-(सं. पुं.) क्षुम्भ का सेनापति, एक दैत्य जिसको भगवती दुर्गा ने मारा था, वृक्ष का ठूँठ, गरदन के ऊपर का अंग जिसमें आँख, नाक, मुँह आदि रहते हैं, मस्तक, सिर, कटा हुआ सिर, एक उपनिषद् का नाम; (वि.) मुँडा हुआ, अधम, नीच; -न-(पुं.) सिरके वालों को उस्तरे से मूँडने की क्रिया, द्विजातियों के

सोलह संस्कारों में से एक जिसमें बालक के सिर का बाल मुँडा जाता है; -फल-(पुं.) नारियल का फल; -मंडली-(स्त्री.) अशिक्षित सेना; -माला-(स्त्री.) कटे हुए सिरों की माला जो शिव या काली के गले में सुशोभित है; -मालिनी-(स्त्री.) दुर्गा, काली; -माली-(पुं.) शिव, महादेव; -शालि-(पुं.) बोरो वान ।

मुँडकरी-(हि. स्त्री.) घुटनों पर सिर धरकर बैठना ।

मुँडचिरा-(हि. पुं.) एक प्रकार के फकीर जो अपना सिर, आँख, कान, नाक आदि किसी पत्ते हथियार से घायल करके भीख माँगते हैं, जब कोई जल्दी भीख नहीं देता तो वे अड़ जाते और अपने अंगों को और भी घायल करते हैं ।

मुँडचिरापन-(हि. पुं.) लेन-देन में बड़ी हुज्जत और हठ ।

मुँडना-(हि. क्रि. स.) सिर के वालों की सफाई करना, लुटना, ठगा जाना, धोखे में आना, हानि उठाना ।

मुँडा-(हि. पुं.) वह जिसके सिर पर बाल न हों या मुँडे हुए हों, वह जो सिर के बाल मुँडाकर किसी साधु या योगी का चेला बन गया हो, वह पशु जिसके सींग न हों, विना पात्रा की एक प्रकार की लिपि जिसका महाजन या व्यापारी व्यवहार करते हैं, मुँडिया अक्षर, विना नोक का जूता, वह जिसके ऊपरी या इधर-उधर फैलनेवाले अंग न हों, छोटा नागपुर में रहनेवाली एक असम्य जाति का नाम; (सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसके सिर के बाल मुँडे दिये गये हों ।

मुँडाई-(हि. स्त्री.) मुँडन, मुँडाने की क्रिया या भाव, मुँडने या मुँडाने का शुल्क ।

मुँडासन-(सं. पुं.) योग का एक आसन ।

मुँडासा-(हि. पुं.) सिर पर वाँधने का मुरेठा ।

मुँडित-(सं. वि.) मुँडा हुआ ।

मुँडिनी-(सं. स्त्री.) कस्तूरी-मृग ।

मुँडिया-(हि. पुं.) वह जो सिर मुँडाकर किसी साधु-संन्यासी का चेला बन गया हो, संन्यासी ।

मुँडी-(सं. स्त्री.) गोरखमुँडी ।

मुँडी-(हि. स्त्री.) वह स्त्री जिसका सिर मुँडा गया हो, विधवा, रांड, विना नोक की एक प्रकार की जूती; (पुं.) साधु या संन्यासी के प्रति तिरस्कारमूचक शब्द ।

मुँडेर-(हि. स्त्री.) देखें 'मुँडेर', खेत की सीमा पर बँधी हुई मँड ।

मुंडेरा—(हि. पूं.) सब से ऊपर की छत पर चारों ओर बनी हुई मेंड़ जैसी दीवार ।
 मुंडरी—(हि. स्त्री.) छोटा मुंडेरा ।
 मुंदना—(हि. क्रि. अ.) खुली हुई वस्तु का ढप जाना या बंद होना, (छेद, विल आदि का) बंद होना, लुप्त होना, छिपना ।
 मुंदरा—(हि. पूं.) योगियों का कान में पहनने का एक प्रकार का कुंडल, कान में पहिनने का एक प्रकार का आमूषण ।
 मुंदरी—(हि. स्त्री.) अँगुलियों में पहिनने का सोना, चाँदी आदि का छल्ला, अँगुठी ।
 मुंशी—(अ. पूं.) लिखनेवाला, लेखक ।
 मुंह—(हि. पूं.) किसी प्राणी का वह अंग जिससे वह भोजन करता या बोलता है, मुख, मनुष्य या अन्य प्राणी के सिर का अगला भाग जिसमें आँख, नाक, कान आदि अंग होते हैं; चेहरा, सामर्थ्य, योग्यता, साहस, छिद्र, वरतन आदि का ऊपरी भाग का छिद्र, ऊपरी धार या किनारा; (मुहा.) -काला करना—अपने को अपमानित करना, व्यभिचार करना, उपेक्षा करना; -की खाना—अपमानित होना; -के बल गिरना—ठोकर खाकर इस प्रकार गिरना कि मुंह में चोट लग जाय; -छिपाना—लज्जावश सिर नीचा कर लेना; -तक आना—लवालय भर जाना; -ताकना—किसी के मुख की धोर देखना, स्तब्ध होकर मुंह निहारना, चुपचाप बैठे रहना; -दिखाना—सामने आना; -देखकर बात कहना—चापलूसी करते हुए कुछ कहना; -देखना—देखें 'मुंह ताकना'; -देखे की—दिखोआ, बनावटी; -पर—(अव्य.) प्रत्यक्ष, सामने; -पर बरसना—आकृति से मन का भाव प्रकट होना; -फुलाना—असन्तोष दिखलाना; -फूंकना—धिक्कारना, कोसना; -रखना—किसी की बात मानना; -लगना—किसी से उद्दता के साथ वाद-विवाद करना; -लगाना—सिर चढ़ाना; -सूखना—डर या लज्जा से मुख की आकृति उदास हो जाना, चेहरा उतर जाना; -काला—(पुं.) अप्रतिष्ठा, एक प्रकार की गाली; -चटौवल—(स्त्री.) चूमन, वकवाद; -चोर—(पुं.) वह जो लोगों के सामने जाने में संकोच करता हो; -छुआई—(स्त्री.) केवल ऊपरी मन से कुछ कहना; -छुट—(वि.) जो प्रश्लील बातें कहने में या गाली

देने में संकोच न करे, मुंहफट; -जोर—(वि.) अधिक बोलनेवाला, बड़बड़िया, उद्दण्ड; -जोरी—(स्त्री.) उद्दण्डता, लड़ाकापन; -दिखलाई, -दिखाई—(स्त्री.) नई वधू का मुख देखने की रीति या रस्म, वह धन, आमूषण आदि जो मुंह देखने पर वधू को दिया जाता है; -देखा—(वि.) जो हार्दिक या आन्तरिक न हो, जो किसी को प्रसन्न करने के लिये हो, सर्वदा आज्ञा की प्रतीक्षा म रहनेवाला; -नाल—(स्त्री.) धातु की बनी हुई वह छोटी नली जो हुक्के की सटक या नैचे में लगी रहती है और जिसको मुंह में लगाकर धुआँ खींचा जाता है, तलवार के म्यान के सिरे पर लगी हुई धातु की सामी; -पटा—(पुं.) घोड़े का एक साज; -फट—(वि.) जिसकी वाणी संयत न हो; -बंद—(वि.) जिसका मुंह बन्द हो, जो खुला न हो; -बँधा—(पुं.) जैन साधु जो मुख पर कपड़ा बाँधे रहते ह; -बोला—(वि.) जो वास्तव में न हो, केवल मुख से कहकर बनाया गया हो; -भराई—(स्त्री.) मुंह भरने की क्रिया या भाव, वह धन जो किसी का मुंह बंद करने के लिये अर्थात् उसको कुछ कहने या करने से रोकने के लिये दिया जाय, उत्कोच, घूस; -मांगा—(वि.) मनोनुकूल, अपनी माँग के अनुसार ।
 मुंहामुंह—(हि. अव्य.) मुंह तक, भरपूर ।
 मुहासा—(हि. पूं.) युवावस्था में मुख पर निकलनेवाले दाने या फुंसियाँ जो बीस से पचीस वर्ष की अवस्था तक निकलती हैं ।
 मुअत्तल—(अ. वि.) काम से अलग किया हुआ, पदच्युत ।
 मुअत्तली—(अ. स्त्री.) मुअत्तल होने का भाव, पदच्युत ।
 मुकंद—(सं. पूं.) कुंदरू, प्याज, साठी धान ।
 मुकट—(हि. पूं.) देखें 'मुकुट' ।
 मुकटा—(हि. पूं.) एक प्रकार की रेशमी घोती जो पूजन, भोजन आदि के समय पहनी जाती है ।
 मुकता—(हि. पूं.) देखें 'मुक्ता', मोती; (वि.) यथेष्ट, पर्याप्त, बहुत अधिक ।
 मुकदमा—(अ. पूं.) कचहरी में विचाराधीन मामला ।
 मुकदमेवाज—(अ. वि.) मुकदमालड़नेवाला ।
 मुकना—(हि. पूं.) देखें 'मुकुना'; (हि. क्रि. अ.) मुक्त होना, छुटकारा पाना, समाप्त होना ।

मुकरना—(हि. क्रि. अ.) कोई बात कहकर उससे फिर जाना, या हटना; (पुं.) वह जो बात कहकर मुकर जाता हो ।
 मुकरनी—(हि. स्त्री.) मुकरी नामक कविता ।
 मुकराना—(हि. क्रि. स.) दूसरे को मुकरने में प्रवृत्त करना ।
 मुकरी—(हि. स्त्री.) चार चरणों की एक कविता—इसके प्रथम तीन चरण ऐसे होते हैं जिनसे दो तरह के अर्थ निकलते हैं, तथा चौथे चरण में किसी पदार्थ का नाम लेकर उन चरणों का अर्थ अस्वीकार किया जाता है ।
 मुकरर—(अ. वि.) निश्चित, नियत ।
 मुकल—(सं. पूं.) अमलतास, गुग्गुलु ।
 मुकाबला—(अ. पूं.) वरावरी, सामने होना या आना, मिलान करना ।
 मुकाम—(अ. पूं.) ठहरने का स्थान, यड़ाव, ठहराव, वासस्थान ।
 मुकामी—(अ. वि.) स्थानीय ।
 मुकियल—(हि. पूं.) एक प्रकार का बाँस ।
 मुकियाना—(हि. क्रि. स.) किसी के शरीर पर मुक्कियों से बार-बार आघात करना, आटा गूँथने के बाद उसको कोमल करने के लिये बार-बार मुक्कियों से दबाना, घुंसे लगाना, मुक्का मारना ।
 मुकुंद—(सं. पूं.) विष्णु, एक प्रकार का रत्न, पारा, कुंदरू, कनेर, पोई का साग ।
 मुकुट—(सं. पूं.) राजाओं का सिर का आमूषण, किरोट, अवतंस, (प्राचीन काल के राजा मुकुट धारण करते थे ।)
 मुकुटी—(सं. स्त्री.) अँगुली मटकाना ।
 मुकुर—(सं. पूं.) दर्पण, मौलसिरी का वृक्ष, कुम्हार का डंडा जिससे वह चाक चलाता है, वेर का पेड़, एक प्रकार का केला, कोरक, कली ।
 मुकुरित—(सं. वि.) खिला हुआ ।
 मुकुल—(सं. पूं.) शरीर, आत्मा, भूमि, पृथ्वी, गुग्गुलु, जमालगोटा, एक प्रकार का छन्द, कली ।
 मुकुलाग्र—(सं. पूं.) प्राचीन काल का एक प्रकार का अस्त्र ।
 मुकुलित—(सं. वि.) जिसमें कलियाँ लगी या निकली हों, कुछ खिली हुई (कली), आघा खुला और आघा बंद ।
 मुकुली—(सं. पूं.) वह पीधा जिसमें कलियाँ निकल आई हों ।
 मुकुण्ड—(सं. पूं.) वनमृग, मोट ।
 मुक्का—(हि. पूं.) बँधी हुई मुट्ठी जिससे मारा जाय ।
 मुक्की—(हि. स्त्री.) मुक्का, घुंसा, मुक्कों

की मार, आटा गूँथने के बाद उसको मृदु करने के लिये वँधी हुई मुट्ठी से बार-बार दवाना, किसी के शरीर पर मुट्ठी वाँव कर धीरे-धीरे आघात पहुँचाना जिससे शरीर की पीड़ा दूर हो।

मुक्केवाजी—(हि. स्त्री.) मुक्की की लड़ाई।

मुक्की—(हि. पुं.) एक प्रकार का कबूतर।

मुक्त—(सं. वि.) जिसको मोक्ष प्राप्त हो

गया हो, बंधन से छूटा हुआ, जो दबाव

से अलग हुआ हो, फँका हुआ;—कंचुक—

(पुं.) जिस सर्प ने हाल में कंचुकी

छोड़ी हो;—कंठ—(वि.) चिल्ला-

कार बोलनेवाला, वेधड़क बोलनेवाला;

—क—(पुं.) प्राचीन काल का एक प्रकार

का फेंककर मारने का अस्त्र, फुटकर

कविता;—केश—(वि.) जिसके बाल

बँधे न हों;—केशी—(स्त्री.) काली देवी

का एक नाम;—क्षु—(पुं.) सिंह;

(वि.) जिसकी आँखें खुली हों;—चेता—

(वि.) जिसमें मोक्ष पान की वृद्धि आ

गई हो;—ता—(स्त्री.) मुक्त होने का

भाव, मुक्ति, छुटकारा;—निद्र—

(वि.) जागरित, जगा हुआ;—सातू—

(स्त्री.) शुक्ति, सीप;—रस—(वि.)

जिसका रस बह गया हो;—रोष—(वि.)

जिसको क्रोध न हो;—लज्ज—(वि.)

निलज्ज;—वसन—(वि.) जिसके

शरीर पर कोई वस्त्र न हो, नग्न, नंगा;

(पुं.) शुक्ति, सीप;—वेणी—(स्त्री.)

द्रोपदी का एक नाम;—व्यापार—

(वि.) जिसने कारखार छोड़ दिया हो,

संन्यासी, त्यागी;—संधाय—(वि.) जिसका

सन्देश दूर हो गया हो;—सार—(पुं.)

केले का पेड़;—हस्त—(वि.) उदार, जो

बड़ा दानी हो।

मुक्तांबर—(सं. वि.) नग्न, नंगा।

मुक्ता—(सं. स्त्री.) मौक्तिक, मोती।

मुक्तात्मा—(सं. पुं.) वह पुरुष जो माया

के बंधनों से मुक्त हो गया हो।

मुक्तापात—(हि. पुं.) एक प्रकार की

झाड़ी जिसके डंठलों से चट्टाई बनती है।

मुक्तापुष्प—(सं. पुं.) कुन्द का पीचा वा फूल।

मुक्ताल—(सं. पुं.) मोती, कपूर, हरश-

रेवड़ी, एक प्रकार का छोटा लिसेवा।

मुक्तामोक्षक—(सं. पुं.) मोतीचूर का लड्डू।

मुक्तासन—(सं. पुं.) योग-नायना का एक

आसन, सिद्धान्त।

मुक्ति—(सं. स्त्री.) मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण।

मुक्तिका—(न. स्त्री.) एक जानिपद चित्रमें

मुक्ति के विषय में मोक्षदायी की मूर्ति है।

मुक्तिकेत्र—(सं. पुं.) मुक्तिप्रद स्थान, काशी।

मुख—(सं. पुं.) मुँह, आनन, घर का

द्वार, नाटक में एक प्रकार की सन्धि,

गन्ध, नाटक, वेद, पक्षी की चोंच,

किसी पदार्थ का अगला या ऊपरी भाग,

नाटक का पहला गन्ध, आरम्भ, जीरा;

(वि.) मुख्य, प्रधान;—कमल—(पुं.)

कमल जैसी मुख;—खुर—(पुं.) दाँत;

—चंद्र—(पुं.) चन्द्रमा के समान मुख

की शोभा;—चपल—(वि.) जो बड़-

बड़कर बोलता हो;—चपलता—

(स्त्री.) बहुत अधिक बड़-बड़कर बोलना;

—चपला—(स्त्री.) आर्या छन्द का

एक भेद;—चपेटिका—(स्त्री.) गाल पर

तमाचा मारना;—ज—(पुं.) ब्राह्मण;

(वि.) मुख से उत्पन्न;—ताल—(पुं.)

किसी गीत का पहला पद, टोक;—हूषण—

(पुं.) पलाण्डु, प्याज;—दूषिका—(स्त्री.)

मुंहासा रोग;—धावन—(पुं.) दतुवन

करना;—पट—(पुं.) मुख ढाँपने का

कपड़ा, नकाब, घूँघट;—पाक—(पुं.)

बैलों आदिके मुख का एक रोग;—पिंड—

(पुं.) अत्योष्ठि-क्रिया में दिया

जानेवाला पिंड;—पूरण—(पुं.)

कुल्ली करने के लिये मुँह में लिया हुआ

पानी;—प्रक्षालन—(पुं.) मुखधावन,

मुँह धोना;—प्रिय—(पुं.) नारंगी,

ककड़ी;—वंध—(पुं.) अनुक्रमणिका,

प्रस्तावना;—भूषण—(पुं.) तांबूल,

पान;—मंडल—(पुं.) चहरा;—र—

(वि.) अप्रियवादी, कटु, बोलनेवाला,

बकवादी, प्रधान; (पुं.) कौवा;—वल्लभ—

(पुं.) अनाद का पेड़; (वि.) जो माने

में अच्छा लगे;—वाछ—(पुं.) मुँह से

फूँककर बजाने का वाजा;—वासिनी—

(स्त्री.) सरस्वती देवी;—विपुला—

(स्त्री.) आर्या छन्द का एक भेद;

—शठ—(पुं.) दुमंग, वह जो कटु वचन

बोलता हो;—शुद्धि—(स्त्री.) गंजन वा

दतुवन आदि की महारिता से मुँह स्वच्छ

करना, भोजन के उपरान्त पान-मुसारी

आदि नाकर भुग को सफ़ कराना;

—शोष—(पुं.) प्यास वा गर्मी से कारण

मुँह सूखना;—संभव—(पुं.) आशय,

पुनारमूल;—स्य—(वि.) कष्टना, जो

याद हो;—व्याघ्र—(पुं.) शूर, शाय।

मुगला—(हि. पुं.) मोगल, मुगल।

मुगाकार—(सं. पुं.) मुगल के सड़क।

मुगाप—(सं. पुं.) किसी पदार्थ का मूला

नाक, स्रोत (हि.) मूलकार।

मुलापेक्षक—(सं. वि.) दूसरे का मुँह

ताकनेवाला।

मुलापेक्षा—(सं. स्त्री.) दूसरे के बाधित

रहना, दूसरे का मुँह ताकना।

मुलापेक्षी—(सं. वि., पुं.) (वह) जो दूसरे

की कृपादृष्टि के नरोसे रहता हो।

मुलामृत—(सं. पुं.) मुल की गोमा, छोटे

बच्चों के मुँह को लार।

मुलास्त्र—(सं. पुं.) केवड़ा।

मुत्तिया—(हि. पुं.) नेता, सरदार, किसी

काम को सब से पहले करनेवाला, अथवा,

अगुआ, वल्लभ सम्प्रदाय के मन्दिरो

का प्रधान कर्मचारी जो मूर्ति की पूजा

करता और भोग लगाता है।

मुत्य—(सं. वि.) प्रधान, सब से बड़ा, श्रेष्ठ

मुत्यत—(सं. अव्य.) मुख्य रूप में, गाम

तौर पर।

मुत्यता—(सं. स्त्री.) मुख्य होने का

भाव, श्रेष्ठता।

मुगदर—(हि. पुं.) एक प्रकार की लाड़ली

की गावदुम मुगरी जो व्यायाम में उपयोग

की जाती है, जोड़ी।

मुगल—(फा. पुं.) मध्य एशिया के तातार

नामक देश का निवासी, मुगलमनों के

चार प्रधान वर्गों में से एक वर्ग।

मुगवन—(हि. पुं.) वनमूंग, मोठ।

मुग्धम—(हि. वि.) गोलकार न कला हुआ

मंकेन में कटा गया।

मुग्ध—(सं. वि.) मोह या भ्रम में पड़ा

हुआ, मुदर, मनोहर, मूठ, आमान

मोहित, नवीन, नया;—ता—(स्त्री.)

—स्व—(पुं.) मटना, मुन्दरता, मोहित होने

का भाव;—वृद्धि—(वि.) अल्प वृद्धि वा;

—भाव—(पुं.) बढितनीयता, सरलता।

मुग्धा—(सं. स्त्री.) साहित्य में अनुमान

वह नायिका जो मुताबरता को प्राप्त हुई

हो परन्तु उसमें काम की चेष्टा नहीं।

मुग्धद—(हि. वि.) मोटा और मड़ा।

मुग्धक—(सं. पुं.) लाधा, काट।

मुग्धद—(सं. पुं.) एक मुग्धवृक्ष का

पेड़।

मुग्धर—(सं. वि.) उदार, दानी।

मुग्धक—(सं. पुं.) शंकर।

मुग्धद—(सं. पुं.) देश 'मुग्धर'।

मुग्धी—(सं. स्त्री.) ऐसी ही मटावना।

मुग्धर—(हि. पुं.) किसी क्षत्रिय-कुल

की-जैसी का, जोड़ का नाम, कर्ण, कर्ण।

मुग्धक—(हि. वि.) सही-सही, सही-सही।

मुग्धर—(हि. स्त्री.) कर्ण का बंधन

का विषय, कर्ण, कर्ण, कर्ण की जीभ-

वादन करता हो ।

मुझ—(हिं. सर्व.) “मै” का वह रूप जो उसको कर्ता और संबन्ध कारक को छोड़कर अन्य कारकों में विभक्ति लगने से प्राप्त होता है, यथा—मुझको, मुझसे, मुझ पर ।

मुझ—(हिं. सर्व.) “मै” का कर्म और संप्रदान कारक का रूप ।

मुटकना—(हिं. वि.) जो आकार में छोटा परंतु सुन्दर हो ।

मुटका—(हिं. पुं.) एक प्रकार की रेशमी धोती, मुकटा ।

मुटमूरी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का धान ।

मुटाई—(हिं. स्त्री.) स्थूलता, मोटापन, पुष्टि, अभिमान, घमंड ।

मुटाना—(हिं. क्रि. अ.) मोटा होना, अभिमानो होना ।

मुटासा—(हिं. वि.) जो कुछ धन कमा लेने के कारण घमंडी हो गया हो ।

मुटिया—(हिं. पुं.) वह श्रमिक जो बोझ ढोता हो ।

मुटठा—(हिं. पुं.) चंगुल भर वस्तु, (घास, फूस, तृण आदि का) उतना पूरा जितना हाथ की मुट्ठी में आ सके, यन्त्र आदि की मुटिया, पुल्लादा, बंधा हुआ समूह जो मुट्ठी में आ सके, धुनकी की तांत पर चोट लगाने का बेलन ।

मुट्ठी—(हिं. स्त्री.) बँधी हुई हथेली, करतल की वह मुद्रा जो अँगुलियों को मोड़कर हथेली पर दबा लेने से बनती है, उतनी वस्तु जितनी बँधी हुई हथेली में अँट सके, बँधी हुई हथेली के बराबर की माप, अंगों का मर्दन; (मुहा.)—में—अधिकार या वश म;—गरम करना—धूस देना ।

मुठभेड़—(हिं. स्त्री.) लड़ाई, टक्कर, सामना, भेंट ।

मुठिका—(हिं. स्त्री.) मुट्ठी, घूँसा, मुक्का ।

मुठिया—(हिं. स्त्री.) किसी अस्त्र की बेंट, धुनियों का वह डंडा जिससे वे तांत पर मारते हैं, किसी वस्तु का वह भाग जो हाथ से पकड़ा जाता है ।

मुठे—(हिं. स्त्री.) देखें ‘मुट्ठी’ ।

मुडक—(हिं. स्त्री.) देखें ‘मुर्क’ ।

मुडकना—(हिं. क्रि. अ.) देखें ‘मुर्कना’ ।

मुड़ना—(हिं. क्रि. अ.) दबाव या आघात से झुक जाना, टेढ़ा होकर भिन्न दिशा में प्रवृत्त होना, सीधा जाकर किसी ओर झुकना, किसी धारदार किनारे या नोक का एक ओर झुक जाना, घूमकर पीछे की ओर चलना, लौटना, पलटना,

चलते-चलते किसी ओर फिर जाना ।

मुड़ला—(हिं. वि.) मुंडा, बिना बाल का ।
मुड़वाना—(हिं. क्रि. स.) किसी को मुँडने में प्रवृत्त करना, घूमने या मुड़ने में प्रवृत्त करना ।

मुड़वारी—(हिं. स्त्री.) अटारी की भीत का सिरा, मुँड़ेरा, जिस ओर किसी पदार्थ का सिरा या ऊपरी भाग हो, चारपाई का सिरहाना ।

मुड़हर—(हिं. पुं.) स्त्रियों की साड़ी का वह भाग जो ठीक सिर पर रहता है ।

मुड़ाना—(हिं. क्रि. स.) मुंडन कराना, मुँडाना ।

मुड़िया—(हिं. पुं.) वह जिसका सिर मुँडा गया हो, संन्यासी; (स्त्री.) महा-जनी लिपि ।

मुड़ेरा—(हिं. पुं.) देखें ‘मुँड़ेरा’ ।

मुतक्का—(हिं. पुं.) पटिया या ईट की भीत जो छज्जे या ऊपरी चौक के पाटन के किनारे खड़ी की जाती है, खम्भा, लाट ।

मुतसिरी—(हिं. स्त्री.) गले में पहनने की मोतियों की कंठी ।

मुताह—(हिं. पुं.) मुसलमानों में एक प्रकार का अस्थायी रूप का विवाह ।

मुतेहरा—(हिं. पुं.) कंकण की आकृति का एक प्रकार का आमूषण ।

मुद—(सं. पुं.) हर्ष, आनन्द ।

मुदकारी—(हिं. वि.) हर्ष कारक ।

मुदगर—(हिं. पुं.) देखें ‘मुगदर’ ।

मुवरा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का मादक पदार्थ ।

मुदित—(सं. वि.) आनन्दित, प्रसन्न ।

मुदिता—(सं. स्त्री.) हर्ष, आनन्द, साहित्य में वह परकीया नायिका जो पर पुरुष की प्रीति या प्रेम की आकस्मिक प्राप्ति से प्रसन्न होती है ।

मुदिर—(सं. पुं.) मेघ, बादल, कामुक, जिसकी काम-वासना तीव्र हो, मँढक ।

मुदग—(सं. पुं.) जलवायस, मूंग नामक अन्न;—पणों—(स्त्री.) वनमूंग, मोठ ।

मुदगर—(सं. पुं.) काठ का बना हुआ एक प्रकार का गावदुम दण्ड जिसकी पेंदी भारी होती है, (इसको हाथ में लेकर कई प्रकार हिलाते हुए मल्ल व्यायाम करते हैं), एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र ।

मुदगल—(सं. पुं.) रोहिण नाम की घास, गोत्रप्रवर्तक एक ऋषि का नाम ।

मुदगवटक—(सं. पुं.) मूंग का बड़ा ।

मुद—(हिं. वि.) देखें ‘मुग्ध’ ।

मुद्वी—(हिं. स्त्री.) सरकनेवाली गाँठ ।

मुद्रक—(सं. पुं.) पुस्तक छापनेवाला ।

मुद्रण—(सं. पुं.) किसी वस्तु पर अक्षर आदि छापना, छपाई का काम, ठप्पे आदि की सहायता से छापकर मुद्रा तैयार करना, मुँदना ।

मुद्रणा—(सं. स्त्री.) अँगूठी ।

मुद्रणालय—(सं. पुं.) मुद्रण करने का स्थान, छापखाना ।

मुद्रांकन—(सं. पुं.) मुद्रा की सहायता से छापने का काम, छपाई, शरीर पर विष्णु के आयुष के चिह्न जो गरम लोहे से दाग कर बनाये गये हैं ।

मुद्रांकित—(सं. वि.) मुद्रांकन किया हुआ ।

मुद्रा—(सं. स्त्री.) किसी नाम की छाप या मुहर, अँगूठी, सोना-चाँदी आदि का सिक्का, चिह्न, छापने की विभिन्न लिपियों में से कोई एक, टाइप के ढले हुए अक्षर, तान्त्रिक साधना में अंग की विशिष्ट स्थिति, कान का एक आमूषण जिसको गोरख-पंथी साधु पहनते हैं, अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम, वह अलंकार जिसमें प्रकृत अर्थ के सिवाय पद्य में और भी साभिप्राय अर्थ निकलते हों, विष्णु के आयुषों के चित्र जिसको वैष्णव लोग अपने शरीर पर अंकित करते हैं अथवा गरम लोहे से दगवा लेते हैं, किसी देवता की आराधना करते समय हाथ, पाँव, अँगुली आदि की विशिष्ट स्थिति; मुख की आकृति, खड़े होने, बैठने या लेटने का कोई ढंग, हठयोग में विशेष अंग-विन्यास जो पाँच प्रकार का होता है, यथा—खेचरी, मूचरी, चाचरी, गोचरी और उन्मनी;—कार—(पुं.) राज्य का वह प्रधान अधिकारी जिसके अधिकार में राजा की मुद्रा रहती है, वह जो किसी प्रकार की मुद्रा तैयार करता हो;—कान्हड़ा—(पुं.) एक प्रकार का राग;—टोरी—(स्त्री.) एक प्रकार की रागिनी;—तत्त्व—विद्या—(पुं., स्त्री.) वह शास्त्र जिसके अनुसार किसी देश की पुरानी मुद्राओं की सहायता से उस देश के ऐतिहासिक तत्त्वों का निरूपण किया जाता है;—मार्ग—(पुं.) ब्रह्मरन्ध्र, मस्तक के भीतर का वह स्थान जहाँ प्राणवायु रहती है;—यंत्र—(पुं.) वह यन्त्र जिसके द्वारा कागज आदि पर लकड़ी या सीसे के ढले हुए मुद्राक्षरों से छपा जाता है, मुद्रण की कल;—विज्ञान—शास्त्र—(पुं.) देखें ‘मुद्रातत्त्व’ ।
मुद्राक्षर—(सं. पुं.) सीसे के ढले हुए अक्षर ।

जो छपने के काम में आते हैं, टाइप।
मुद्रिक, मुद्रिका—(सं. स्त्री.) सोना या चाँदी की मुद्रा, रुपया, अँगूठी, कुश की बनी हुई वह अँगूठी जो पितृश्राद्ध में अनामिका में पहनी जाती है, पवित्री।

मुद्रित—(सं. वि.) मुद्रण किया हुआ, छपा हुआ, मुद्रा हुआ।

मुधा—(सं. अव्य.) व्यर्थ, बूथा, निष्फल, निरर्थक; (वि.) निष्प्रयोजन, मिथ्या।
मुनमुना—(हिं. पुं.) मैदे का बना हुआ एक प्रकार का पकवान।

मुनरा—(हिं. पुं.) कान में पहनने का एक प्रकार का गहना।

मुनि—(सं. पुं.) मौनव्रती, महात्मा, ऋषि, तपस्वी, त्यागी, (भगवद्गीता में श्रीकृष्ण न मुनि की परिभाषा अर्जुन से इस प्रकार कही है—जो दुःख में नहीं घबड़ाते, सुख में जिनको स्पृहा नहीं रहती, तथा जिनको अनुराग, भय, क्रोध आदि लेशमात्र नहीं होता), दमनक, दौना, सात की संख्या, कुरु के एक पुत्र का नाम; —धान्य—(पुं.) तिन्नी का चावल; —पुंगव—(सं. पुं.) मुनि श्रेष्ठ; —पुष्प—(पुं.) विजयसार का फूल; —प्रिया—(स्त्री.) एक प्रकार का मुगन्धित धान; —भवत; —भोजन—(पुं.) तिन्नी का चावल।

मुनियों—(हिं. स्त्री.) लाल नामक पक्षी की मादा; (पुं.) एक प्रकार का अगहनिया धान।

मुनीन्द्र—(सं. पुं.) ऋषियों में श्रेष्ठ, बुद्धदेव।
मुनीव, मुनीम—(अ. पुं.) सहायक, वह जो साहूकारों का हिसाब-किताब लिखता हो।

मुनीश—(सं. पुं.) मुनिश्रेष्ठ, वाल्मीकि, बुद्धदेव।
मुनीश्वर—(सं. पुं.) मुनियों में श्रेष्ठ, विष्णु, बुद्धदेव।

मुन्ना—(हिं. पुं.) छोटे बच्चे के लिये प्रेमसूचक शब्द, प्यारा, तारकशी में दोनों खूँटे जिनमें जंता लगा रहता है।

मुन्न—(हिं. पुं.) देखें 'मुन्ना'।
मुफलिस्त—(अ. वि.) गरीब, निर्धन।

मुफालिती—(अ. स्त्री.) गरीबी।

मुफीद—(अ. वि.) लाभकारी।

मुफत—(अ. वि.) बिना दाम का, सेंट में प्राप्त।

मुवारक—(अ. वि.) शुभ, भला, कल्याणकर।

मुमकिन—(अ. वि.) संभाव्य, जो हो सके।

मुमुक्षा—(सं. स्त्री.) मुक्ति की अभिलाषा।

मुमुक्षु—(सं. पुं. वि.) (वह) जो मुक्ति की कामना करता हो।

मुमुक्षता—(सं. स्त्री.) मुमुक्षु का भाव या धर्म।

मुमूर्षा—(सं. स्त्री.) मरने की अभिलाषा।

मुमूर्षु—(सं. वि.) जो मर रहा हो, मरणासन्न।

मुर्डा—(हिं. पुं.) वह लड़कू जो मूने हुए गहूँ म गुड़ मिलाकर बनाया जाता है, गुड़धानी; (वि.) शुष्क, सूखा हुआ।

मुर—(सं. पुं.) एक दैत्य जिसको विष्णु ने मारा था, वेष्टन, वेठन; (हिं. अव्य.) दुबारा, फिर।

मुरई—(हिं. स्त्री.) देखें 'मूली'।

मुरक—(हिं. स्त्री.) मुरकने की क्रिया या भाव।

मुरकना—(हिं. क्रि. अ.) लचककर एक ओर मुड़ना या झुकना, फिरना, घूम जाना, हिचकना, रकना, लौटना, नष्ट होना, किसी अंग का आघात लगने से मुड़ जाना, मोच खाना।

मुरका—(हिं. पुं.) बड़े-बड़े दाँतों का सुन्दर हाथी।

मुरकाना—(हिं. क्रि. स.) घुमाना, फेरना, लौटाना, शरीर के किसी अंग में मोच या मुरक उत्पन्न करना, नष्ट करना।

मुरकी—(हिं. स्त्री.) कान में पहनने की छोटी वाली।

मुरकुल—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की पहाड़ी लता।

मुरखाई—(हिं. स्त्री.) देखें 'मूर्खता'।

मुरगंड—(सं. पुं.) मुहाँसा नामक रोग।

मुरगा—(हिं. पुं.) एक पालतू पक्षी।

मुरगी—(हिं. स्त्री.) मादा मुरगा।

मुरचंग—(हिं. पुं.) लोहे आदि का बना हुआ एक वाजा जो मुँह से बजाया जाता है।

मुरचा—(हिं. पुं.) देखें 'मोरचा'।

मुरछना—(हिं. क्रि. अ.) शिथिल होना, अचेत होना।

मुरछल—(हिं. पुं.) देखें 'मोरछल'।

मुरछा—(हिं. स्त्री.) देखें 'मूर्च्छा'।

मुरछावंत—(हिं. वि.) देखें 'मूर्च्छित'।

मुरछित—(हिं. वि.) देखें 'मूर्च्छित'।

मुरज—(सं. पुं.) मुदंग, पखावज।

मुरझाना—(हिं. क्रि. अ.) फूल-पत्ती आदि का कुम्हलाना, उदास होना।

मुरड़—(हिं. पुं.) अभिमान, अहंकार।

मुरतंगा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का ऊँचा वृक्ष।

मुरदर—(सं. पुं.) मुरारि, श्रीकृष्ण।

मुरदा—(फा. वि.) मृत, मरा हुआ, बेजान; (पुं.) शव, लाश।

मुरदार—(फा. वि.) मरा हुआ, मृत, बेजान।

मुरदासन—(हिं. पुं.) सीसातथासेंदुरकामिश्रण।

मुरघर—(हिं. पुं.) मारवाड़ देश का प्राचीन नाम।

मुरता—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'मुड़ना'।

मुरपरना—(हिं. पुं.) वह वकूचा जिसमें

सौदा बांधकर फेरीवाले बेचते हैं।

मुरब्बा—(अ. पुं.) फलों को चाशनी में पकाकर बनाया हुआ पाक।

मुरमर्दन—(सं. पुं.) मुरारि, विष्णु।

मुरमुराना—(हिं. क्रि. अ.) चूरचूर होना।

मुरारिपु—(सं. पुं.) मुरारि, विष्णु।

मुरल (ला)—(सं. पुं., स्त्री.) प्राचीन काल का एक प्रकार का वाजा, नर्मदा नदी।

मुरलिका—(सं. स्त्री.) मुरली, बाँसुरी।

मुरलिया—(हिं. स्त्री.) मुरली, बाँसुरी।

मुरली—(सं. स्त्री.) मुँह से बजाने का बाँसुरी नामक वाजा, बंसी, एक प्रकार का आसामी चावल; —घर—(पुं.) श्रीकृष्ण; —मनोहर—(पुं.) श्रीकृष्ण;

—वाला—(पुं.) श्रीकृष्ण।

मुरवा—(हिं. पुं.) एड़ी के ऊपर की हड्डी के चारों ओर का घेरा, एक प्रकार की कपास।

मुरवी—(हिं. स्त्री.) मौर्वी, घनुप की डोरी, चिल्ला।

मुरवरी—(सं. पुं.) मुरारि, श्रीकृष्ण।

मुरसुत—(सं. पुं.) मुर दैत्य का पुत्र वत्सासुर।

मुरहा—(सं. पुं.) विष्णु, कृष्ण; (हिं. पुं.) वह बालक जो मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ हो, अनाथ बालक; (वि.) उपद्रवी, नटखट।

मुरहारी—(सं. पुं.) मुर दैत्य को मारने वाले विष्णु।

मुरा—(सं. स्त्री.) एक प्रसिद्ध गन्धद्रव्य, मौर्यवंश के संस्थापक सम्राट चन्द्रगुप्त की माता का नाम जो महाराज महा-

पद्मनंद की रखेली थी।

मुराड़—(हिं. पुं.) जलती हुई लकड़ी, लुआठी।

मुराद—(अ. स्त्री.) कामना, अभीष्ट।

मुराना—(हिं. क्रि. स.) मुँह में डालकर किसी वस्तु को मृदु करना, चुमलाना, देख 'मोड़ना'।

मुरार—(हिं. पुं.) कमल की जड़, मसीड़, देखें 'मुरारि'।

मुरारि—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण।

मुरारी—(हिं. पुं.) देखें 'मुरारि'।

मुरारे—(सं. पुं.) मुरारिकासंवाघनकारकल्प।

मुरासा—(हिं. पुं.) कर्णफूल, तरकी।

मुरध—(हिं. पुं.) देखें 'मुर'; (सं. पुं.) एक प्रकार की झाड़ी।

मुरधा—(हिं. पुं.) एड़ी के ऊपर का घेरा या हड्डी।

मुरख—(हिं. वि.) देखें 'मूर्ख'।

मुरछना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'मुरछना', (स्त्री.) देखें 'मूर्च्छना'।

मुरझाना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'मुरझाना'।

मुरैठा—(हि. पुं.) पगड़ी, साफा ।
 मुरेर—(हि. स्त्री.) देखें 'मरोड़' ।
 मुरेरना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'मरोड़ना' ।
 मुरेरा—(हि. पुं.) मुंडेरा, देखें 'मरोड़' ।
 मुरौवत—(अ. स्त्री.) उदारता, कृतज्ञता ।
 मुरौवती—(अ. वि.) मुरौवत-संबंधी ।
 मुर्दा—(हि. वि.) मरा हुआ, मुरदा ।
 मर्मुर—(सं. पुं.) मन्मथ, कामदेव, सूर्य के रथ का घोड़ा ।
 मुर्दा—(हि. पुं.) मरोड़फली नाम की औषधि; पेट में मरोड़ होकर बारंबार शोच होना; (स्त्री.) एक प्रकार की भैंस जिसका सींग गोलाई में मुड़ा रहता है ।
 मुर्सी—(हि. स्त्री.) पेरी या रस्सी के दो सिरों को आपस में मिलाकर बट देना ताकि वे जुड़ जायें, धोती आदि का कमर पर का लपेट, कपड़े आदि को मरोड़कर बनी हुई बत्ती, चिकन, कशीदा या कड़ाई की एक विधि;—दार—(वि.) ऐंठनदार ।
 मुर्वा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का जंगली पौधा ।
 मुलकना—(हि. क्रि. अ.) पुलकित होना, मुंह पर हँसी दिखाई पड़ना ।
 मुलकित—(हि. वि.) मन्द-हासयुक्त, मुस्कराता हुआ ।
 मुलतानी—(हि. वि.) मुलतान-संबंधी; (स्त्री.) एक रागिनी का नाम, एक प्रकार की बहुत कोमल चिकनी मिट्टी ।
 मुलमची—(हि. पुं.) सोना या चाँदी के गहनों आदि पर मुलम्मा करनेवाला, गिलट करनेवाला ।
 मुलम्मा—(अ. वि.) चाँदी या सोने का पानी चढ़ाया हुआ; (पुं.) चानी-सोने की कलई ।
 मुलहठी—(हि. स्त्री.) देखें 'मुलेठी' ।
 मुलहा—(हि. वि.) मूल नक्षत्र में उत्पन्न, उपद्रवी ।
 मुलाकात—(अ. स्त्री.) भेंट, मिलना-जुलना ।
 मुलाकाती—(अ. वि.) मुलाकात-संबंधी ।
 मुलायम—(अ. वि.) नरम, कोमल ।
 मुलायमी—(हि. स्त्री.) कोमलता ।
 मुलुक—(हि. पुं.) देखें 'मुल्क' ।
 मुलेठी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की लता जिसकी जड़ औषध में प्रयुक्त होती है, जठीमधु ।
 मुल्क—(अ. पुं.) देश, प्रदेश ।
 मुल्की—(अ. वि.) देश का, मुल्क-संबंधी ।
 मुन्तबी—(अ. वि.) आगे के लिए टाला हुआ।

मुल्ला—(अ. पुं.) मीलवी, नमाज पढ़नेवाला ।
 मुवना—(हि. क्रि. अ.) मरना ।
 मुवाना—(हि. क्रि. स.) हत्या करना, मार डालना ।
 मुशल—(सं. पुं.) मूसल ।
 मुशालिका—(सं. स्त्री.) मूसली ।
 मुशली—(सं. पुं.) बलदेव का एक नाम ।
 मुश्क—(फा. पुं.) कस्तूरी ।
 मुश्किल—(अ. वि.) कठिन ।
 मुषक—(सं. पुं.) मूसा, चूहा ।
 मुपल—(सं. पुं.) मूसल, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम ।
 मुपली—(सं. स्त्री.) छिपकली, विस्तुइया ।
 मुषा—(सं. स्त्री.) सोना-चाँदी गलाने की धरिया ।
 मुषित—(सं. वि.) चुराया हुआ, ठगा हुआ ।
 मुष्क—(सं. पुं.) अण्डकोष, तस्कर, चोर, ढेर; (वि.) मांसल, मांस से भरा हुआ;—शून्य—(वि.) बधिया किया हुआ ।
 मुष्ट—(सं. वि.) नष्ट किया हुआ, मसला हुआ ।
 मुष्टि—(सं. पुं.) एक प्रकार का प्राचीन परिमाण, मुट्ठी, मुक्का, घूँसा, चोरी, दुर्भिक्ष, कंस की सभा का एक मल्ल, (छुरे, तलवार आदि की) मूठ, मोखा नामक वृक्ष, ऋद्धि नामक औषधि, चार अंगुल की नाप, सोनार ।
 मुष्टिकांतक—(सं. पुं.) मुष्टिक नाम के मल्ल को मारनेवाले बलदेव ।
 मुष्टिका—(सं. स्त्री.) मुक्का, घूँसा, मुट्ठी ।
 मुष्टिदेश—(सं. पुं.) घनुष का वह भाग जो मुट्ठी से पकड़ा जाता है ।
 मुष्टिभेय—(सं. वि.) मुट्ठी भर, बहुत थोड़ा-सा ।
 मुष्टियुद्ध—(सं. पुं.) घूँसेवाजी, मुक्कों की लड़ाई ।
 मुष्टियोग—(सं. पुं.) हठयोग की कुछ क्रियायें जिनके करने से रोग हटता तथा शरीर में बल आता है, किसी काम आदि का कोई सरल उपाय ।
 मुसकनि—(हि. स्त्री.) मुसकराहट ।
 मुसकराना—(हि. क्रि. अ.) ओठों में हँसना, बहुत मन्द रूप से हँसना ।
 मुसकराहट—(हि. स्त्री.) मुसकराने की क्रिया या भाव, मंद हँसी ।
 मुसंका—(हि. स्त्री.) रस्सी की बनी हुई जाली जो बैलों के मुँह पर बाँधी जाती है ।
 मुसकान—(हि. स्त्री.) देखें 'मुसकराहट' ।
 मुसकाना—(हि. क्रि. अ.) मुसकराना ।
 मुसकानि—(हि. स्त्री.) मुसकराहट ।
 मुसकिराना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'मुसकराना' ।

मुसकिराहट—(हि. स्त्री.) देखें 'मुसकराहट' ।
 मुसकराना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'मुसकराना' ।
 मुसकराहट—(हि. स्त्री.) देखें 'मुसकान' ।
 मुसक्यान—(हि. पुं.) देखें 'मुसकान' ।
 मुसखोरी—(हि. स्त्री.) खेत में चूहों की अधिकता ।
 मुसटी—(हि. स्त्री.) चुहिया, एक प्रकार का घान ।
 मुसदी—(हि. स्त्री.) मिठाई बनाने का साँचा ।
 मुसना—(हि. क्रि. अ.) अपहरना, लूटा जाना, घन आदि का चुराया जाना ।
 मुसमर, मुसमरवा—(हि. पुं.) चूहा खाने-वाला एक पक्षी ।
 मुसमुद, मुसमुध—(हि. वि.) नाश किया हुआ; (पुं.) नाश ।
 मुसम्मी—(हि. पुं.) मीठा बड़ा नीबू ।
 मुसरा—(हि. पुं.) पेड़ की वह जड़ जिसमें एक ही मोटा पिण्ड धरती के भीतर दूर तक चला गया हो, उसमें शाखायें न हों ।
 मुसल—(सं. पुं.) घान कूटने का एक उपकरण, मूसल ।
 मुसलघार—(हि. अव्य.) देखें 'मूसलघार' ।
 मुसलमान—(अ. पुं.) इस्लाम धर्म का अनुयायी ।
 मुसलमानी—(अ. वि.) मुसलमान-संबंधी; (स्त्री.) मुसलमान बनाना, खतना ।
 मुसलिम—(अ. पुं.) मुसलमान ।
 मुसली—(हि. पुं.) हल्दी की जाति का एक पौधा जिसकी जड़ औषधों में प्रयुक्त होती है ।
 मुसल्लम—(अ. वि.) समूचा ।
 मुसवाना—(हि. क्रि. स.) लुटवाना, चोरी कराना ।
 मुसहर—(हि. पुं.) एक अन्त्यज जंगली जाति जो दोने, पत्तल आदि बेचती है ।
 मुस्किल—(हि. स्त्री.) देखें 'मुष्किल' ।
 मुस्की—(हि. स्त्री.) देखें 'मुसकराहट' ।
 मुस्टंडा—(हि. वि.) हृष्टपुष्ट, गुंडा, दुष्ट ।
 मुस्त, मुस्तक—(सं. पुं.) नागरमोथा ।
 मुस्ता—(सं. स्त्री.) मुस्तक, मोथा ।
 मुहताज—(अ. वि.) गरीब, अभावग्रस्त ।
 मुहताजी—(अ. स्त्री.) गरीबी, अभावग्रस्तता ।
 मुहवनी—(हि. स्त्री.) नारंगी की तरह का एक प्रकार का फल ।
 मुहव्वत—(अ. स्त्री.) चाह, प्रेम, प्रीति ।
 मुहव्वती—(अ. वि.) प्रेमी, मुहव्वत का ।
 मुहर—(हि. स्त्री.) किसी चीज पर अंकित प्रतीक, (प्रामाणिकता के लिये), मुद्रा ।
 मुहरा—(हि. पुं.) सामने का भाग, मुख की आकृति, लक्ष्य, शतरंज आदि की

कोई गोटी, पत्नी घोंटने का आला, घोड़े का वह साज जो उसके मुख पर पहनाया जाता है; (मुहा.)-लेना-सामना करना।

मुहूर्तर-(अ. पुं.) लिखनेवाला।

मुहूर्तरि-(अ. स्त्री.) मुहूर्तर का काम या पद।

मुहलत-(अ. स्त्री.) अवकाश।

मुहलेठी-(हि. स्त्री.) देखें 'मुलेठी'।

मुहाला-(हि. पुं.) पीतल की चूड़ी जो शोभा के लिये हाथी के दाँत पर चढ़ाई जाती है।

मुहि-(हि. सर्व.) देखें 'मोहि'।

मुहुः-(सं. अव्य.) बार-बार, फिर-फिर।

मुहुक-(सं. पुं.) मोहक, मोहनवाला।

मुहुपुची-(हि. पुं.) एक प्रकार का कीड़ा।

मुहुभुंज-(सं. पुं.) अक्व, घोड़ा।

मुहुमुहुः-(सं. अव्य.) बार-बार, फिर-फिर।

मुहूर्त-(सं. पुं.) दिन-रात का तीसवाँ भाग, कला का दसवाँ भाग, निर्दिष्ट क्षण या काल, फलित ज्योतिष के अनुसार गणना करके निकाला हुआ वह काल जिसमें शुभ कार्य आदि किया जाता है; -ज्ञ-(पुं.) ज्योतिर्विद्, ज्योतिषी।

मुहूर्ता-(सं. स्त्री.) दक्ष की एक कन्या का नाम।

मूंग-(हि. स्त्री.) एक अन्न जिसकी दाल बनाई जाती है; -फली-(स्त्री.) एक प्रकार का पीधा जिसमें आलू की तरह मेड़ों के भीतर गुच्छों में फल लगते हैं जो खाने और तेल निकालने के काम में आते हैं, चिनिया बादाम।

मूंगा-(हि. पुं.) समुद्र में रहनेवाले एक प्रकार के कीड़ों की लाल ठठरी जिसकी गुरिया बनाकर पहनी जाती है, (इसकी गणना रत्न में है), विद्रुम, प्रवाल, एक प्रकार का रेशम का कीड़ा, एक प्रकार का गन्ना।

मूंगिया-(हि. वि.) हरे रंग का; (पुं.) एक प्रकार का हरा रंग, एक प्रकार का धारीदार चारखाना।

मूँछ-(हि. स्त्री.) ऊपर के ओठ पर के घने बाल जो केवल पुरुषोंको होते हैं; (मुहा.)-जवाड़ना-किसी का अभिमान नष्ट करना; मूँछनीची होना-अभिमान मिट जाना; -पर ताव देना-गर्व से मूँछ के बालों को ऐंठना।

मूँछी-(हि. स्त्री.) बेसन की बनी हुई एक प्रकार की कढ़ी।

मूँज-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का तृण जिसमें पतली तथा लंबी पत्तियाँ होती हैं और टहनियाँ नहीं होतीं।

मूँड़-(हि. पुं.) कपाल, सिर; (मुहा.)

-मारना-कठिन परिश्रम करना;

-मुड़ाना-साधु या वैरागी बन जाना;

-कटा-(वि.) दूसरे को हानि पहुँचानेवाला।

मूँड़न-(हि. पुं.) मुँडन, चूड़ाकरण संस्कार।

मूँड़ना-(हि. क्रि. स.) सिर के बाल बनाना, हजामत करना, घोखा देकर किसी का घन हर लेना, ठगना, चला बनाना, मेड़ का ऊन कतरना।

मूँड़ी-(हि. स्त्री.) मस्तक, सिर, किसी पदार्थ का सिर के आकार का भाग।

मूँदना-(हि. क्रि. स.) ऊपर से ढककर किसी वस्तु को छिपाना; (छिद्र, द्वार, मुख आदि पर) कोई वस्तु फैलाकर या रखकर उसको बंद करना।

मूक-(सं. वि.) वाक्यरहित, गूंगा, हीन, विवश; -ता (स्त्री.), -त्व-(पुं.)-गूंगापन।

मूका-(हि. पुं.) भीत के आरपार बना हुआ छेद, छोटा गोल झरोखा, मोखा, बँधी हुई मुट्ठी का प्रहार, धुंसा।

मूखना-(हि. क्रि. स.) देखें 'मसना'।

मूचना-(हि. क्रि. स.) देखें 'मोचना'।

मूठ-(हि. स्त्री.) मुष्टि, मुट्ठी, उतनी वस्तु जितना मुट्ठी में आ सके, किसी हथियार का कब्जा, तंत्र-मंत्र का प्रयोग, जादू-टोना, कौड़ी से खेलने का एक प्रकार का जुआ; (मुहा.)-मारना-जादू-टोना करना; -लगना-जादू का प्रभाव होना।

मूठना-(हि. क्रि. अ.) नष्ट होना, मर मिटना।

मूठा-(हि. पुं.) रस्सी से बँधे हुए घास-फूस के पूले जो खपरैल के नीचे छाजन में लगाये जाते हैं, मुट्ठा।

मूठाली-(हि. स्त्री.) तलवार।

मूठी-(हि. स्त्री.) देखें 'मुट्ठी'।

मूँड़-(हि. पुं.) देखें 'मूँड़'।

मूँड़-(सं. वि.) मूर्ख, निश्चेष्ट, स्तब्ध, जिसको आगा-पीछा न सूझता हो; (पुं.)

मूर्च्छा; -गर्भ-(पुं.) गर्भनाव आदि रोग; -चेतन-(वि.) निर्वृद्धि, व्याकुल-चित्त, सरल; -ता (स्त्री.), -त्व-(पुं.) मर्खता; -धी-(वि.) मन्दबुद्धि, जड़; -मति-(वि.) मन्दबुद्धि, मूर्ख।

मूत-(हि. पुं.) प्राणियों के उत्पन्न मार्ग से निकलनेवाला जल, मूत्र।

मूतना-(हि. क्रि. अ.) मूत्र निकालना।

मूतरी-(हि. पुं.) एक प्रकार का जंगली कौधा।

मूत्र-(सं. पुं.) वह जल जो मांस मन के द्रव अंश को लेकर उत्पन्न मार्ग से निक-

लता है, मूत्र; -कृच्छ-(पुं.) मूत्र का वह रोग जिसमें पीड़ा देकर रक्त-रक्तकर मूत्र निकलता है; -कौश-(पुं.) मूत्राशय; -दोष-(पुं.) मूत्रकृच्छ रोग; -

-निरोध-(पुं.) मूत्र का रक्त जाना;

-विज्ञान-(पुं.) मूत्र के भेद तथा दोषादोष को जानने की विद्या; -वृद्धि-(स्त्री.) अधिक मूत्र निकलना; -शूल-(पुं.) मूत्र निकलते समय पीड़ा होना।

मूत्राघात-(सं. पुं.) मूत्र बंद होने का रोग।

मूत्राशय-(सं. पुं.) नामि के नीचे का वह स्थान जिसमें मूत्र संचित होता है।

मूना-(हि. पुं.) टुकुवे की पीतल या लोहे की अंकुभी।

मूर-(हि. पुं.) मल, जड़, मूल-वन, मूल नक्षत्र।

मूरख-(हि. पुं.) मूर्ख मनुष्य; (वि.) मूर्ख।

मूरखताई-(हि. स्त्री.) देखें 'मूर्खता'।

मूरचा-(हि. पुं.) देखें 'मोरचा'।

मूरछना-(हि. स्त्री.) देखें 'मूर्च्छना', (क्रि. अ.) मूर्च्छित होना।

मूरछा-(हि. स्त्री.) देखें 'मूर्च्छा'।

मूरत (ति)-(हि. स्त्री.) देखें 'मूर्ति'।

मूरतिबन्त-(हि. वि.) मूर्तिमान्, शरीरधारी।

मूरव-(हि. पुं.) देखें 'मूर्वा'।

मूरि, मूरी-(हि. स्त्री.) मूल, जड़, जड़ी-बूटी।

मूर्ख-(सं. वि.) मूढ़, अज्ञ, वह जो गायत्री नहीं जानता; -ता-(स्त्री.) मूर्खता; -त्व-(पुं.) अज्ञता।

मूर्तिनी-(हि. स्त्री.) मूर्ग स्त्री।

मूर्तिमा-(सं. स्त्री.) मूर्गता।

मूर्च्छन-(सं. पुं.) सजा नष्ट होना या करना, मूर्च्छित करने का मन्त्र, कामदेव के एक वाण का नाम।

मूर्च्छना-(सं. स्त्री.) संगीत में एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक आरोह-अवरोह, ग्राम के सातवें भाग का नाम।

मूर्च्छा-(सं. स्त्री.) किसी प्राणी की निश्चेष्ट और गंजाहीन होने की अवस्था, अचेत स्थिति, बेहोशी, देह 'मूर्च्छना'।

मूर्च्छित-(सं. वि.) मूर्च्छासुल, बेहोश, अचेत, मारा हुआ (प्राण), बूढ़, बड़ा, मूढ़, व्यापन, फँसा हुआ।

मूत-(सं. वि.) जिनका कोई रूप या आकार नहीं, मातृका, मेवाणिकी के मन में पंचतन्वी से निर्मित, ठोस; -ता-(स्त्री.) मूर्त होने का माय का धर्म।

मूर्ति-(सं. स्त्री.) मूर्तिरूप, मूर्तिना, शरीर, देह, प्रतिमा, किसी देह रूप या आकृति के समान बनाई हुई मनु-

आकृति, स्वरूप, रंग या रेखा द्वारा बनाई हुई आकृति, चित्र, तसवीर; -कार- (पुं.) मूर्ति बनानेवाला, चित्रकार; -त्व- (पुं.) मूर्ति का भाव या धर्म; -घर- (पुं.) मूर्ति धारण करनेवाला; -पूजक- (पुं.) मूर्ति या प्रतिमा को पूजनेवाला; -पूजा- (स्त्री.) किसी देवी-देवता की भावना करके उसकी मूर्ति या प्रतिमा को पूजना; -मत्- (पुं.) शरीर, देह; (वि.) जो शरीर धारण किये हो, साक्षात्, गोचर, प्रत्यक्ष, सशरीर; -मय- (वि.) मूर्ति-स्वरूप; -मान- (वि.) शरीरधारी; -विद्या- (स्त्री.) मूर्ति गढ़ने की विद्या, चित्रकारी।

मूर्ध- (हि. पुं.) मस्तक, शिर; -क- (पुं.) क्षत्रिय; -कर्णो- (स्त्री.) वह वस्तु जो घूप तथा वर्षा से बचने के लिये शिर पर रखी जाय, छाता; -कर्परी- (स्त्री.) छतरी; -न्य- (वि.) मूर्धा से उत्पन्न।

मूर्धा- (सं. स्त्री.) शिर।
मूर्धाभिषेक- (सं. पुं.) अभिषेक के समय शिर पर अभिमंत्रित जल सिंचन।

मूर्धा- (सं. स्त्री.) मरोड़फली नामक लता।
मूल- (सं. पुं.) वृक्ष का वह भाग जो पृथ्वी के नीचे रहता है, जड़, आदि, आरंभ, पास, समीप, धन या पूंजी जो किसी व्यापार में लगाई जाती है, आदि कारण, नीवें, वह ग्रन्थ जिस पर टीका की जाती है, खाने योग्य जड़, कन्द, सूरन, पिप्पलीमूल, अश्विनी आदि नक्षत्रों में से उन्नीसवाँ नक्षत्र, देवताओं का आदि मन्त्र या बीज; (वि.) मुख्य, प्रधान; -क- (पुं.) मूली, मुरई, मूल स्वरूप एक स्थावर विप; (वि.) उत्पन्न करनेवाला, जनक; -कर्म- (पुं.) प्रवान कर्म; -कारण- (पुं.) आदि कारण; -कारिका- (स्त्री.) चण्डी; -ग्रंथ- (पुं.) वह ग्रन्थ जिसका अनुवाद, टीका आदि की गई हो, -च्छेद- (पुं.) किसी पदार्थ का जड़ से नाश; -जाति- (स्त्री.) प्रवान वंश; -त्व- (पुं.) मूल का भाव या धर्म; -द्रव्य- (पुं.) मूल-धन, पूंजी; -द्वार- (पुं.) प्रवान द्वार; -घन- (पुं.) मूल-द्रव्य, पूंजी; -पुरुष- (पुं.) किसी वंश का आदि पुरुष या पुरखा; -पोती- (स्त्री.) छोटी पोय का साग; -प्रकृति- (स्त्री.) आधा-भक्ति; -बंध- (पुं.) हठ-योग की एक क्रिया; -भद्र- (पुं.) कंसराज;

-भव- (वि.) जो मूल से उत्पन्न हो; -मंत्र- (पुं.) बीज-मंत्र; -वित्त- (पुं.) मूलधन, पूंजी; -विद्या- (स्त्री.) वारह अक्षरों का एक मन्त्र; -स्थली- (स्त्री.) आलवाल, धाला; -स्थान- (पुं.) जन्म-स्थान, बाप-दादों का वास-स्थान; -स्थायी- (पुं.) शिव, महादेव; -हर- (वि.) मूलनाशक।

मूला- (सं. स्त्री.) सतावर, मूल नक्षत्र।
मूलाधार- (सं. पुं.) योग के अनुसार मनुष्य के शरीर के भीतर का वह स्थान जो गुदा और लिंग के बीच में स्थित है।
मूलाशी- (सं. वि.) कन्द-मूल खाकर रहनवाला।

मूलिका- (सं. स्त्री.) औषधियों की जड़, जड़ी।
मूली- (हि. स्त्री.) एक पौधा जिसकी जड़ खाने में कटु या कड़ुई होती है, मुरई; (मुहा.) किसी को गाजर-मूली समझना- (किसी को) तुच्छ जानना।

मूलोच्छेद- (सं. पुं.) जड़ से नाश।

मूलोत्पादन- (सं. पुं.) जड़ से उखाड़ना।

मूल्य- (सं. पुं.) किसी वस्तु के बदले में मिलनेवाला धन, दाम; -करण- (पुं.) मूल्य-निरूपण; -वान- (वि.) कीमती।

मूष- (सं. पुं.) मूसा, चूहा, सोना-चाँदी गलाने की धरिया; -क- (पुं.) इन्दुर, चूहा।
मूषा- (सं. स्त्री.) गवाक्ष, शरोखा, गोखरू का पौधा।

मूषीकरण- (सं. पुं.) धरिया में घातु गलाने की क्रिया।

मूस- (हि. पुं.) चूहा; -दानी- (स्त्री.) चूहा फंसाने का पिजड़ा।

मूसना- (हि. क्रि.स.) चुराकर उठाले जाना।

मूसर- (हि. पुं.) धान कूटने की लकड़ी का मोटा डंडा, मसल, असम्य पुरुष।

मूसरचंद- (हि. पुं.) अपढ़, गंवार, हट्टा-कट्टा परन्तु निकम्मा।

मूसल- (हि. पुं.) धान कूटने का लंबा मोटा डंडा, एक अस्त्र जिसकी बलराम धारण करते थे।

मूसलधार- (हि. अव्य.) वृष्टि जो मूसल के समान मोटी धारा में हो।

मूसली- (हि. पुं.) हल्दी की जाति का एक पौधा जिसकी जड़ दवा के काम आती है।

मूसा- (हि. पुं.) चूहा, यहूदियों के एक पंगवर का नाम।

मूसाकानी- (हि. स्त्री.) एक प्रकार की लता जिसके पत्ते चूहे के कान के आकार के होते हैं, यह औषधों में प्रयुक्त होती है।

मूकंडु- (सं. पुं.) मार्कण्डेय ऋषि के पिता।
मृग- (सं. पुं.) पशु मात्र विशषतः जंगली पशु, हाथी की एक जाति, हरिन, मृग-शिरा नक्षत्र, अन्वेषण, खोज, प्रार्थना, अगहन का महीना, मकर राशि, मृग-नाभि, कामशास्त्र के अनुसार पुरुषों के चार भेदों में से एक, अन्वेषण करनेवाला वैष्णवों के तिलक का एक भेद; -कानन (पुं.) मृगया का उपयुक्त वन; -क्षीर- (पुं.) हरिनी का दूध; -गामिनी- (स्त्री.) मृग के समान चलनेवाली; -चर्म- (पुं.) हरिन का चमड़ा जो बहुत पवित्र माना जाता है; -छाला- (हि. पुं.) हरिन का चमड़ा; -जल- (पुं.) मृगतृष्णा; -जीवन- (पुं.) व्याध, वहेलिया; -णा- (स्त्री.) खोयी हुई वस्तु की खोज; -तृषा, -तृष्णा- (स्त्री.) जल की लहरों का आभास जो मरुभूमि में कड़ी घूप के कारण दिखाई पड़ता है, मृगजल, मरी-चिका; -त्व- (पुं.) मृग का भाव या धर्म; -दंश, -दंशक- (पुं.) कुत्ता; -दाव- (पुं.) मृग-कानन, काशी के पास का सारनाथ नामक एक स्थान; -दृश- (वि.) मृगलोचन, हरिन के समान आंखों-वाला; -धर- (पुं.) चन्द्रमा; -धूर्त- (वि.) श्रुगाल, सियार; -नाथ- (पुं.) सिंह; -नाभि- (पुं.) कस्तूरी; -नेत्रा- (वि. स्त्री.) मृग के सदृश नेत्रवाली; -पति, -प्रभु- (पुं.) सिंह; -भद्र- (पुं.) हाथियों की एक जाति; -मद- (पुं.) कस्तूरी; -मरीचिका- (स्त्री.) देखें 'मृगतृष्णा'; -मित्र- (पुं.) चन्द्रमा; -मेद- (पुं.) कस्तूरी; या (स्त्री.) शिकार, आखेट; -राज- (पुं.) सिंह, व्याघ्र; -रोग- (पुं.) घोड़े का एक घातक रोग; -रोचना- (स्त्री.) कस्तूरी, मुस्क; -लांछन- (पुं.) चंद्रमा; -लेखा- (स्त्री.) चन्द्रमा का कलक; -लोचना, -लोचनी- (स्त्री.) हरिण के समान नेत्रोंवाली स्त्री; -वन- (पुं.) आखेट का जंगल; -वारि- (पुं.) मृगतृष्णा का जलामास; -व्याध- (पुं.) मृगों को पकड़नेवाला, वहेलिया, एक नक्षत्र, शिव, महादेव; -शावक- (पुं.) हरिण का बच्चा; -शिरा- (स्त्री.) अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों में से पाँचवाँ नक्षत्र; -शीष- (पुं.) मृगशिरा नक्षत्र; -श्रेष्ठ- (पुं.) व्याघ्र, बाघ।
मृगांक- (सं. पुं.) चन्द्रमा, कपूर, वायु, वैचक के एक रस का नाम।

भृगांगजा—(सं. स्त्री.) कस्तूरी ।
 भृगांगना—(सं. स्त्री.) हरिणी, हरनी ।
 भृगाक्षी—(सं. स्त्री.) देखें 'भृगुनयना' ।
 भृगाधिप, भृगाधिराज—(सं.पुं.) सिंह, शेर ।
 भृगारि—(सं. पुं.) सिंह, व्याघ्र, बाघ ।
 भृगाश, भृगाशन—(सं. पुं.) सिंह, शर ।
 भृगित—(सं. वि.) अन्वेषित, खोजा हुआ ।
 भृगिनी—(हिं. स्त्री.) हरनी ।
 भृगी—(सं. स्त्री.) हरिणी, कश्यप ऋषि की एक कन्या का नाम, तीन अक्षरों का एक छंद, पीले रंग की एक प्रकार की कौड़ी, कस्तूरी, अपस्मार-रोग ।
 भृगीपति—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण ।
 भृगीलोचना—(सं. स्त्री.) देखें 'भृगुनेत्रा' ।
 भृगोत्र—(सं. पुं.) सिंह, एक छन्द का नाम; —मुख—(पुं.) एक छन्द जिसके प्रत्यक चरण में तेरह अक्षर होते हैं ।
 भृगोक्षण—(सं. वि.) भृग के समान आँखोंवाला ।
 भृगोक्षणा—(सं. स्त्री.) भृगुनयनी ।
 भृगोश, भृगोश्वर—(सं. पुं.) सिंह ।
 भृग्य—(सं. वि.) खोजने योग्य ।
 भृज—(सं. पुं.) भृज नाम का वाजा ।
 भृज्य—(सं. वि.) मार्जन योग्य ।
 भृड—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 भृडन—(सं. पुं.) आनन्दित करना ।
 भृडा, भृडानी—(सं. स्त्री.) दुर्गा का एक नाम ।
 भृणाल—(सं. पुं.) कमल की डंडी, कमलनाल, उशीर, खस, कमल की जड़, मुरार, भसींड; —क—(पुं.) कमलनाल ।
 भृणालिनी—(सं. स्त्री.) पद्मिनी, कमलिनी, पद्मसमूह, वह स्थान जहाँ कमल हों ।
 भृणाली—(सं. स्त्री.) देखें 'भृणाल' ।
 भृत—(सं. वि.) प्राण शून्य, मरा हुआ; —क—(पुं.) शव; —कर्म—(पुं.) वह कृत्य जो मृत पुरुष की शुद्ध गति के लिये किया जाता है, प्रेतकर्म; —कल्प—(वि.) मृतप्राय, मरा हुआ-सा; —गृह—(पुं.) समाधि-स्थान; —जीव—(पुं.) मरा हुआ प्राणी; —जीवनी—(स्त्री.) मृतक को जिलाने की विद्या; —प—(पुं.) शव की रक्षा करनेवाला; —मत्त—(पुं.) शृगाल, सियार; —वत्सा—(स्त्री.) वह स्त्री जिसकी सन्तति मर जाती हो; —संस्कार—(पुं.) अन्तेष्टि-क्रिया; —संजीवनी—(स्त्री.) मृतक को जिलाने की बूटी, दुधिया घास; —सूत—(पुं.) रससिद्धर; —स्नान—(पुं.) सपिंड या बन्धु के मरने पर उसके उद्देश्य से किया जानेवाला स्नान; —हार—(पुं.) शव ढोनेवाला ।

भृतांग—(सं. पुं.) शव ।
 भृतांगार—(सं. पुं.) शव का भस्म ।
 भृतालक—(सं. पुं.) अरहर, गोपीचन्दन ।
 भृताशन—(सं. वि.) शव खानेवाला ।
 भृताशौच—(सं. पुं.) वह अशौच जो किसी आत्मीय के मरने पर लगता है ।
 भृति—(सं. स्त्री.) मरण, मृत्यु ।
 भृतोद्भव—(सं. पुं.) समुद्र, महासागर ।
 भृत्कपाल—(सं. पुं.) खपड़ा, जली हुई मिट्टी ।
 भृत्कर—(सं. पुं.) कुम्भकार, कोहार ।
 भृत्किरा—(सं. स्त्री.) घुंघरू ।
 भृत्तिका—(सं. स्त्री.) मिट्टी; —लवण—(पुं.) मिट्टी का नोन ।
 भृत्पांडु—(सं. पुं.) पाण्डुरोग जो मिट्टी खाने से उत्पन्न होता है ।
 भृत्पात्र—(सं. पुं.) मिट्टी का पात्र ।
 भृत्पुंजय—(सं. पुं.) शिव, महादेव; (वि.) जिसने मृत्यु को जीत लिया हो ।
 भृत्यु—(सं. पुं.) यम, कंस, मौत, निघन, प्राण छूटना, शरीर से प्राणों का अलग होना; —कन्या—(स्त्री.) यम की लड़की; —दूत—(पुं.) यम के दूत; —द्वार—(पुं.) शरीर के नीचे छेद जिनसे होकर प्राणवायु निकलती है; —पाश—(पुं.) यम का बंधन; —वोज—(पुं.) मृत्यु का कारण, जन्म; —भय—(पुं.) मरने का डर; —राज—(पुं.) यमराज; —रूपी—(वि.) मृत्यु के समान रूपवाला; —लोक—(पुं.) मर्त्यलोक, यमलोक; —सुत—(पुं.) केतु-ग्रह ।
 भृत्स—(सं. वि.) चिपचिपा ।
 भृत्स्ना—(सं. स्त्री.) चकनी मिट्टी, गोपीचन्दन ।
 भृत्था—(हिं. अव्य.) मृषा, वृथा ।
 भृदंग—(सं. पुं.) ढोलक के आकार का परंतु उससे कुछ बड़ा एक प्रकार का वाजा; —क—(पुं.) एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में पंद्रह अक्षर होते हैं; —फल—(पुं.) पनस, कटहल ।
 भृदंगी—(सं. स्त्री.) कपोती, तरौई ।
 भृदर—(सं. पुं.) व्याधि, रोग ।
 भृदा—(सं. स्त्री.) मृत्तिका, मिट्टी; —कर—(पुं.) वज्र ।
 भृदित—(सं. वि.) चूर्ण किया हुआ ।
 भृदु—(सं. वि.) कोमल, सुकुमार, जो सुनने में कर्कश न हो, मन्द, धीमा, (स्त्री.) घृतकुमारी, धीकुआर; —कर्म—(पुं.) कोमल करने की क्रिया; —गमना—(वि. स्त्री.) धीमी चाल से चलनेवाली; —च्छद—(पुं.) भोजपत्र का वृक्ष; —ता—(स्त्री.) कोमलता, मन्दता, धीमापन;

—पर्ण—(पुं.) कोमल पत्ता, नरकट, भोजपत्र का वृक्ष; —पुष्प—(पुं.) सिरिस का पेड़; —ल—(पुं.) जल, पानी; (वि.) कोमल, सुकुमार, दयालु हृदय का; —स्ता—(स्त्री.) सुकुमारता, कोमलता; —रोमक—(पुं.) शशक, खरहा; —वात—(पुं.) मन्द-मन्द बहनेवाला पवन; —हृदय—(वि.) दयालु, कृपालु ।
 भृदंग—(सं. पुं.) कोमल शरीर ।
 भृध—(सं. पुं.) युद्ध, लड़ाई ।
 भृधा—(सं. अव्य.) मृषा, झूठमूठ ।
 भृनाल—(हिं. पुं.) देखें 'भृणाल' ।
 भृन्मय—(सं. वि.) मिट्टी का बना हुआ ।
 भृषा—(सं. अव्य.) मिथ्या, झूठमूठ; (वि.) असत्य, झूठ; —ज्ञान—(पुं.) अज्ञान, असत्य; —त्व—(पुं.) असत्य; —दृष्टि—(स्त्री.) भ्रांत दृष्टि; —भाषी—(वि.) असत्य वक्ता, झूठ बोलनेवाला; —वाद—(पुं.) मिथ्या कथन, असत्य वचन; —वादी—(वि.) झूठ बोलनेवाला ।
 भृष्ट—(सं. वि.) शोधित, स्वच्छ किया हुआ ।
 भृष्टि—(सं. स्त्री.) परिशुद्धि, शोधन ।
 भृ—(हिं. अव्य.) अधिकरण कारक का चिह्न जिसको किसी शब्द के आगे लगाने से 'भीतर', 'बीच का', 'चारों ओर' आदि अर्थ सूचित होता है; यह आधार या अवस्थान सूचित करता है ।
 भृगनी—(हिं. स्त्री.) पशुओं की गोलियों के रूप में विष्ठा, यथा-उंट या बकरी की विष्ठा, लेंडी ।
 भृङ्ग—(हिं. पुं., स्त्री.) खेतों के चारों ओर की हृदवंदी; —दंडी—(स्त्री.) खेतों के चारों ओर की जानेवाली हृदवंदी ।
 भृक—(सं. पुं.) छाग, बकरी ।
 भृकाल—(सं. पुं.) विन्ध्य पर्वत का एक भाग जो रीवां राज्य के अन्तर्गत है; —सुता—(स्त्री.) नर्मदा नदी ।
 भृक्षण—(सं. पुं.) चम्मच के आकार का एक यज्ञ-पात्र ।
 भृद—(हिं. पुं.) देखें 'भृध'; (स्त्री.) भूमि में गाड़ने के लिये नुकीली गड़ी हुई लकड़ी, खूँटा, कील, काँटा, लकड़ी का पच्चर ।
 भृदडा—(हिं. स्त्री.) दाँस के फटकों का घेरा ।
 भृदल—(हिं. स्त्री.) किकिणी, करघनी ।
 भृदला—(सं. स्त्री.) करघनी, कमरवंद जिसमें तलवार लटकाई जाती है, मण्डलाकार या, गोल घेरा, पर्वत की ढाल, बाँध, सामी, मिट्टी का घेरा जो होम-कुंड के चारों ओर बना रहता है, साधु की कफनी ।

मेखली-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पहनावा जिसको गले में डालने से पेट और पीठ ढँकी रहती है तथा दोनों हाथ खुले रहते हैं, कटिवन्ध, करघनी।

मेघ-(सं. पुं.) मोथा, राक्षस, आकाश में एकत्रित घनीभूत जल या वाष्प जिससे वर्षा होती, पयोधर, पर्जन्य, बादल, संगीत के प्रधान छः रागों में से एक; -काल-(पुं.) वर्षाकाल; -गर्जन-(पुं.) बादलों की गड़गड़ाहट; -चित्तक-(पुं.) मेघ को चाहनेवाला, चतक, चकवा; -जाल-(पुं.) विजली; -जीवन-(पुं.) चक्रवाक पक्षी; -डंवर-(पुं.) मेघ की गर्जना; -तिमिर-(पुं.) बदली का दिन; -दीप-(पुं.) विजली; -दुंडुभि-(स्त्री.) बादल की गरज; -दूत-(पुं.) महाकवि कालिदास-प्रणीत एक खंड-काव्य; -नाथ-(पुं.) एक राग का नाम, इन्द्र; -नाद-(पुं.) रावण के पुत्र का नाम, बादल की गरज, मोर, विल्ली, बकरा, वरुण, वृक्ष; -निर्घोष-(पुं.) बादल की गरज; -पुष्प-(पुं.) इन्द्र का घोड़ा, श्रीकृष्ण के रथ के चारों घोड़ों में से एक; जल, पानी, मोथा, नदी का पानी, बकरे का सींग; -भूति-(पुं.) वज्र, विजली; -मंडल-(पुं.) आकाश; -मल्लार-(पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग; -माला-(स्त्री.) बादलों की घटा, स्कन्द की एक अनुचरी का नाम; -माली-(पुं.) एक असुर का नाम, स्कन्द के एक अनुचर का नाम; -धोनि-(पुं.) घुवाँ, कुहरा; -रवा-(स्त्री.) स्कन्द की एक मातृका का नाम; -राग-(पुं.) संगीत के छः प्रकार के रागों में से एक; -राज-(पुं.) इन्द्र; -राजि, -लेखा-(स्त्री.) बादलों की घटा; -वर्णा-(स्त्री.) नील का पौधा; -वर्त-(पुं.) प्रलय-काल के मेघों में से एक का नाम; -वर्त्म-(पुं.) आकाश; -वर्द्धि-(पुं.) वज्र, विजली; -वाहन-(पुं.) इन्द्र; -वितान-(पुं.) एक छन्द का नाम, मेघसमूह; -विस्फुजिता-(स्त्री.) एक वर्षावृत्त का नाम; -वैश्व-(पुं.) आकाश; -श्याम-(वि.) मेघ के समान काला; (पुं.) श्रीकृष्ण; -सार-(पुं.) चीनिया कपूर; -सुहृद्-(पुं.) मयूर, मोर; -स्वन, -ह्लाद-(पुं.) मेघ की गर्जना।

मेघात-(सं. पुं.) शरत् काल।
मेघा-(हि. पुं.) मंडूक, मेढक।

मेघागम-(सं. पुं.) वर्षाकाल।
मेघाच्छन्न, मेघाच्छादित-(सं. विं.) बादलों से ढँपा हुआ।
मेघाडंबर-(सं. पुं.) मेघों का गर्जन।
मेघानंद-(सं. पुं.) मयूर, मोर।
मेघाभ-(सं. पुं.) वन-जामुन।
मेघारि-(सं. पुं.) वायु, हवा।
मेघावरि-(हि. स्त्री.) बादलों की घटा।
मेघ-(हि. स्त्री.) पलंग, वेंत की बिनी हुई खाट।
मेघक-(सं. पुं.) अन्धकार, अँधेरा, घुवाँ, बादल, एक प्रकार का छोटा विच्छू; (वि.) श्यामल, काला; -ता-(स्त्री.) श्यामता, कालापन; -ताई-(हि. स्त्री.) देख 'मेघकता'।
मेज-(फ्रा. स्त्री.) लकड़ी आदि की बनी ऊँची चौकी, टेबुल।
मेजा-(हि. पुं.) मंडूक, मेढक।
मेटक-(हि. वि.) नाश करनेवाला, मिटानेवाला।
मेदनहार-(हि. पुं.) मिटाने या हूर करनेवाला।
मेदना-(हि. क्रि. स.) घिसकर निर्मल करना, मिटाना, नष्ट करना, दूर करना।
मेदिया-(हि. स्त्री.) घड़े से छोटा मिट्टी का पात्र।
मेटी, मेटुवा-(हि. स्त्री.) देखें 'मेदिया'।
मेटुवा-(हि. वि.) उपकार न माननेवाला, कृतघ्न।
मेड़-(हि. पुं.) खेत के चारों ओर मिट्टी डालकर बनाया हुआ घेरा, मेंड़, दो खेतों के बीच की सीमा, ऊँची लहर; -बंदी-(स्त्री.) मेड़ बनाने की क्रिया, मेंड़बंदी।
मेड़क-(हि. पुं.) मंडूक, मेढक।
मेड़रा-(हि. पुं.) किसी वस्तु का मंडलाकार ढाँचा, उभड़ा हुआ गोल किनारा, मड़रा।
मेड़राना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'मँड़राना'।
मेड़िया-(हि. स्त्री.) मढ़ी।
मेढक-(हि. पुं.) एक जल-स्थलचारी जन्तु, मंडूक, दूँदर, मेघा।
मेढ़ा-(हि. पुं.) सींगवाला एक चौपाया जिसके शरीर पर घन रोयें होते हैं, (इसको लोग लड़ाने के लिये पोलते हैं।)
मेढ़ासिगी-(हि. स्त्री.) एक झाड़ीदार लता जिसकी जड़ औषध के काम में आती है।
मेढ़ी-(हि. स्त्री.) तीन लड़ियों की गूथी हुई चौटी।
मेढ-(सं. पुं.) शिश्न, लिंग।
मेथि-(सं. स्त्री.) पशुओं को बाँधने का खूँटा।

मेथी-(सं. स्त्री.) एक पौधा जिसकी फलियाँ मसाले और औषधों में प्रयुक्त की जाती हैं।

मेथीरी-(हि. स्त्री.) उर्द की बरी जो मेथी का साग मिलाकर बनाई जाती है।
मेद-(सं. पुं.) बसा, चरबी, शरीर में बसा बढ़ने का रोग, कस्तूरी, एक अन्त्यज जाति; -ज-(वि.) बसा से उत्पन्न; -पुच्छ-(पुं.) एडक, दुंवा मेढ़ा; -स्वी-(वि.) बसा के कारण जिसका शरीर मोटा हो गया हो।

मेदा-(सं. स्त्री.) अष्टवर्ग की एक प्रसिद्ध औषधि; (अ. पुं.) पाकाशय, पेट।

मेदिनी-(सं. स्त्री.) पृथ्वी, धरती, मेदा।

मेदिनीज-(सं. पुं.) मंगल ग्रह।

मेदिनीपति-(सं. पुं.) पृथ्वीपति।

मेदुर-(सं. वि.) स्निग्ध, चिकना।

मेदोज-(सं. पुं.) अस्थि, हड्डी।

मेघ-(सं. पुं.) यज्ञ, यज्ञ में बलि दिया जानवाला पशु; -ज-(पुं.) विष्णु।

मेघा-(सं. स्त्री.) धारणा-शक्ति, बुद्धि, मन, स्मरण रखन की शक्ति, धन, सम्पत्ति, सोलह मातृकाओं में से एक, छप्पय छन्द का एक भेद, दक्ष प्रजापति की एक कन्या; -तिथि-(पुं.) कण्व मुनि के पिता; -वती-(स्त्री.) वह स्त्री जिसकी बुद्धि तीव्र हो।

मेघाञ्जनी-(सं. स्त्री.) ब्रह्मा की पत्नी।

मेघावी-(सं. वि.) जिसकी धारणाशक्ति तीव्र हो, पंडित, विद्वान्, चतुर; (पुं.) तोता, मदिरा।

मेध्य-(सं. वि.) पवित्र, बुद्धि बढ़ानेवाला; (पुं.) छाग, बकरा।

मेध्या-(सं. स्त्री.) लाल कमल, गुरोचन, ब्राह्मी बूटी, ईख।

मेनका-(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम, पार्वती की माता का नाम।

मेनकात्मजा-(सं. स्त्री.) दुर्गा, शकुन्तला।

मेना-(सं. स्त्री.) देख 'मेनका'; (हि. क्रि. स.) पकवान के द्रव्य में मीयन डालना।

मेम-(हि. स्त्री.) यूरोप, अमेरिका आदि देशों की स्त्री, ताश का एक पत्ता, वीवी, रानी; -साहवा-(स्त्री.) मेम।

मेमना-(हि. पुं.) मेड़ का वच्चा, छोड़े की एक जाति।

मेमिष-(सं. वि.) जिसकी आँखों पर पलके न हों।

मेथ-(सं. वि.) जो नापा जा सके।

मेरक-(सं. पुं.) एक असुर जिसको विष्णु ने मारा था।

मेरवना—(हि. क्रि. स.) संयोग करना, मिलाना ।

मेरा—(हि. सर्व.) 'मै' शब्द का संबंध कारक का रूप, मुझसे संबंध रखनेवाला ।

मेराउ, मेराव—(हि.पुं.) मिलाप, समागम; (स्त्री.) गर्व, घमंड ।

मेरी—(हि.सर्व.) 'मेरा' का स्त्री-लिंग रूप ।

मेरु—(सं. पु.) एक पुराणोक्त पर्वत जो सोने का कहा गया है, सुमेरु, जपमाला के बीच का सब से बड़ा दाना जो सब दानों के ऊपर होता है, वीणा का एक अंग, एक विशेष वनावट का देवमन्दिर, पिंगल-शास्त्र की एक गणना जिससे यह पता लगता है कि कितने लघु-गुरु

वर्णों से कितने छन्द बन सकते हैं; -क-

(पुं.) धूना; -ग्रंथि-(पुं.) वृक्क, गुरदा;

-दंड-(पुं.) पीठ के बीच की हड्डी, रीढ़, वह कल्पित रेखा जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीच से होकर गई है; -धामा-

(पुं.) शिव, महादेव; -पृष्ठ-(पुं.) आकाश, स्वर्ग; -मूल-(पुं.) पहाड़ का निचला भाग; -यंत्र-(पुं.) बीजगणित में एक चक्र, चरखा; -शिखर-(पुं.)

हठयोग के अनुसार मस्तक के छः चक्रों में सब से ऊपर का चक्र ।

मेरे—(हि.सर्व.) 'मेरा' का बहुवचन, 'मेरा' का वह रूप जो संबंध पुंलिंग शब्द के आगे

विभक्ति लगने पर इसे प्राप्त होता है ।

मेल—(सं.पुं.) मिलाने की क्रिया या भाव, संयोग, परस्पर का घनिष्ठ व्यवहार, मित्रता, अनुकूलता, अनुरूपता, ढंग, प्रकार, मिश्रण, मिलावट, समता, एक साथ प्रीतिपूर्वक रहने का भाव, संगति, एकता; (मुहा.) -खाना-ठीक होता, अनुकूल होता ।

मेलक—(सं.पुं.) समागम, मिलन, मेला, सहवास ।

मेल-जोल—(हि.पुं.) मेल-मिलाप ।

मेलन—(सं.पुं.) मिलने की क्रिया या भाव, संग या साथ होना, इकट्ठा होना ।

मेलना—(हि.क्रि.अ.,स.) मिलाना, इकट्ठा होना ।

मेल-मिलाप—(हि.पुं.) मित्रता, घनिष्ठता ।

मेला—(हि.पुं.) बहुत-से लोगों का जमावड़ा, भीड़-भाड़, उत्सव, खेल, कौतुक

देखने के लिये बहुत से लोगों का इकट्ठा होना; -ठेला-(पुं.) भीड़भाड़, जमावड़ा ।

मेलाना—(हि.क्रि.स.) देख 'मिलाना' ।

मेलानी—(हि.स्त्री.) बन्धक रखी हुई वस्तु को सपना देकर छुड़ाना ।

मेली—(हि.पुं.) संगी, हेलमेल रखनेवाला ।

मेलहना—(हि.क्रि.अ.) वैचैन होना, छटपटाना, टालमटोल करना ।

मेव—(हि.पुं.) राजपूताने की एक लुटेरी जाति ।

मेवड़ी—(हि.स्त्री.) निर्गुण्डी, सँभालू ।

मेवा—(फा.पुं.) फल, सुखाया हुआ फल ।

मेवाड़—(हि.पुं.) दक्षिण राजपूताना के अन्तर्गत एक विस्तीर्ण प्रदेश ।

मेवाड़ी—(हि.पुं.) मेवाड़ प्रदेश का निवासी ।

मेवात—(हि.पुं.) दिल्ली राजधानी के दक्षिण का प्रदेश ।

मेवाती—(हि.पुं.) मेवात प्रदेश में रहनेवाली एक जाति ।

मेवास—(हि.पुं.) दुर्ग, गढ़, सुरक्षित स्थान ।

मेवासी—(हि.पुं.) गढ़ में रहनेवाला, गढ़ का मालिक, सुरक्षित गढ़ ।

मैशिका—(सं.स्त्री.) मजीठ नामक औषधि ।

मेष—(सं.पुं.) भेड़ा, प्रथम राशि का नाम, (वैशाख मास में सूर्य इस राशि में उगते हैं); -पाल-(पुं.) गड़ेरिया;

-पुष्प-(पुं.) मेढासिंगी; -बृषण-(पुं.) इन्द्र; -संक्रांति-(स्त्री.) मेष राशि में सूर्य के आने का; योग (इस दिन सतुआ दान करने का माहात्म्य है), सतुआ संक्रांति; -हूत्-(पुं.) गरुड़ के एक पुत्र का नाम ।

मेवा—(सं.स्त्री.) गुजराती इलायची ।

मेयी—(सं.स्त्री.) मादा भेड़, शीशम की जाति का एक वृक्ष, जटामासी ।

मेहँदी—(हि.स्त्री.) एक पौधा जिसकी पत्तियों को पीसकर स्त्रियाँ हाथ-पैर पर लगाती हैं जिससे वहाँ लाली हो जाती है ।

मेह—(सं.पुं.) प्रमेह रोग, मेष, भेड़ा, मूत्र; (हि.पुं.) मेघ, बादल, वर्षा ।

मेहतर—(हि.पुं.) गली-नाली साफ करने-वाला व्यक्ति ।

मेहतरानी—(हि.स्त्री.) स्त्री मेहतर ।

मेहन—(सं.पुं.) शिश्न, लिंग, मूत्र ।

मेहनत—(फा.स्त्री.) परिश्रम, उद्योग ।

मेहनताना—(हि.पुं.) पारिश्रमिक ।

मेहनती—(फा.वि.) मेहनत करनेवाला, परिश्रमी ।

मेहमान—(फा.पुं.) अतिथि, पाहुना ।

मेहमानी—(फा.स्त्री.) अतिथ्य, पहुनाई ।

मेहरा—(हि.पुं.) जनता, स्वर्ण ।

मेहराव—(अ.स्त्री.) दरवाजे, फाटक आदि के ऊपर की धनुषाकार संरचना ।

मेहरावी—(अ.वि.) मेहराव-संबंधी ।

मेहरारू—(हि.स्त्री.) स्त्री, औरत ।

मेहरी, मेहर—(हि.स्त्री.) पत्नी ।

मैं—(हि.सर्व.) स्वयं, खुद, (उत्तम पुरुष के कर्ता का एकवचन का रूप ।

मैं-(हि.अव्य.) देखें 'मय', साथ मिलाकर ।

मैंका—(हि.पुं.) देखें 'मायका' ।

मैगल—(सं.पुं.) मस्त हाथी; (वि.) मत्त, मस्त ।

मैत्र—(सं.पुं.) अनुराधा नक्षत्र, सूर्य-लोक; (वि.) मित्र-संबंधी, दयालु ।

मैत्रता—(सं.पुं.) बन्धुत्व, मित्रता ।

मैत्राक्ष—(सं.पुं.) एक प्रकार का प्रेत ।

मैत्रायणी—(सं.स्त्री.) एक उपनिषद् का नाम ।

मैत्रिक—(सं.वि.) मित्र-संबंधी ।

मैत्री—(सं.स्त्री.) मित्र का भाव, मित्रता ।

मैत्रेय—(सं.पुं.) पराशर मुनि के एक शिष्य जिन्होंने विष्णुपुराण रचा था, सूर्य ।

मैत्रेयी—(सं.स्त्री.) योगिराज याज्ञवल्क्य की स्त्री का नाम ।

मैथिल—(सं.पुं.) मिथिला देशवासी; (वि.) मिथिला-संबंधी ।

मैथिली—(सं.स्त्री.) मिथिला देश की भाषा, सीता ।

मैथुन—(सं.पुं.) स्त्री के साथ पुरुष का समागम, रति-क्रीड़ा ।

मैदा—(फा.पुं.) बहुत बारीक आटा ।

मैदान—(फा.पुं.) परती तृण-भूमि, खेलने की विस्तृत भूमि; (मुहा.)—में आना या उतरना—लड़ने के लिये अखाड़े में आना;—साफ कर देना—बाधा-विघ्न दूर कर देना ।

मैदानी—(हि.वि.) मैदे का बना हुआ ।

मैन—(हि.पुं.) मोम, कामदेव, राल में मिलाया हुआ मोम जो मूर्ति आदि का ढाँचा बनाने के काम में आता है ।

मैनफल—(हि.पुं.) मँडोले आकार का एक काँटेदार वृक्ष जिसके गोल फल औषधों में प्रयुक्त होते हैं ।

मैनसिल—(हि.पुं.) मनःशिल, एक प्रकार की घातु जो मिट्टी की तरह पीली होती है ।

मैना—(हि.स्त्री.) काले रंग का एक प्रसिद्ध पक्षी जो सिखलाने पर मनुष्य की तरह बोली बोल सकता है, राज-पूताने की मैना नामक जाति ।

मैनाक—(सं.पुं.) पुराण के अनुसार एक पर्वत का नाम जो हिमालय का पुत्र माना जाता है, हिमालय की एक ऊँची चोटी का नाम ।

मैनाल—(सं. पुं.) धीवर, मछुआ ।
 मनावली—(सं. स्त्री.) एक वर्णवृत्त का नाम ।
 मैमंत—(हिं. वि.) मदोन्मत्त, मतवाला, अभिमानी ।
 मैया—(हिं. स्त्री.) माता, माँ ।
 मँर—(हिं. पुं.) मुनारों की एक जाति; (स्त्री.) साँप के विष की लहर ।
 मँरा—(हिं. पुं.) वह मचान जिस पर बैठकर किसान अपनी उपज की रखवाली करते हैं ।
 मैल—(हिं. वि.) मलिन, मैला; (पुं. या स्त्री.) धूल, किट्ट आदि जिसके पड़ने या जमने से किसी वस्तु की चमक नष्ट हो जाती है, मैला करने की वस्तु, दोष, विकार; (मुहा.) हाथ-पैर की मैल-तुच्छ वस्तु ।
 मैलखोरा—(हिं. वि.) मैल को छिपाने-वाला, जिस पर पड़ी हुई मैल जल्दी दिखाई न पड़े; (पुं.) काठी के नीचे का नमदा, साबुन ।
 मैला—(हिं. पुं.) विण्डा, कूड़ा-करकट; (वि.) दूषित, विकारयुक्त, गंदा, जिस पर मैल जमी हो, जिस पर धूल, कीट आदि जमी हो; -कुचैला—(वि.) बहुत मैला, जो बहुत मैले वस्त्र पहनता हो; -पत—(पुं.) मैला होने का भाव ।
 मैहिक—(सं. वि.) जिसको प्रमेह रोग हुआ हो ।
 मो—(हिं. अव्य.) में; (सर्व.) मो ।
 मोंगरा—(हिं. पुं.) मेख ठोंकने का हथौड़ा, एक प्रकार का केशर ।
 मोंछ—(हिं. स्त्री.) देखें 'मूँछ' ।
 मोंढा—(हिं. पुं.) वाँस, सरकंडा या बेंत का बना हुआ एक प्रकार का गोल ऊँचा आसन, कन्वा ।
 मो—(हिं. सर्व.) भेरा, 'मै' का वह रूप जो ब्रज भाषा में कर्त्तकारक के सिवाय अन्य कारकों में व्यवहार किया जाता है ।
 मोई—(हिं. स्त्री.) धी में सना हुआ आटा ।
 मोक—(सं. पुं.) किसी पशु का चमड़ा ।
 मोकना—(हिं. क्रि. स.) त्यागना, छोड़ना ।
 मोकल—(हिं. वि.) मुक्त, छोड़ा हुआ, स्वतंत्र ।
 मोकला—(हिं. वि.) अधिक चौड़ा, स्वच्छंद ।
 मोका—(हिं. पुं.) एक प्रकार का जंगली वृक्ष, मोखा ।
 मोक्ष—(सं. पुं.) मुक्ति, किसी प्रकार के बंधन से छूट जाना, छुटकारा, मृत्यु, पतन, शास्त्रों तथा पुराणों के अनुसार जीव का जन्म और मरण के बन्धन से छूटना; -क—(वि.) मोक्ष देनेवाला; -ण—(पुं.) मोक्ष देने की क्रिया; -द—(वि.) मोक्षदाता, मोक्ष देने-

वाला; -दा—(स्त्री.) अगहन सुदी एकादशी का नाम; -द्वार—(पुं.) मोक्ष का उपाय, सूय; -पति—(पुं.) ताल के मुख्य आठ भेदों में से एक; -पुरी—(स्त्री.) काशी आदि सात पुरियाँ; -विद्या—(स्त्री.) वेदान्त शास्त्र ।
 मोल—(हिं. पुं.) देखें 'मोक्ष' ।
 मोखा—(हिं. पुं.) भीत आदि में बना हुआ छिद्र, झरोखा, एक वृक्ष ।
 मोग—(सं. पुं.) चेचक रोग ।
 मोगरा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बड़े बेले का फूल ।
 मोगल—(हिं. पुं.) देखें 'मुगल' ।
 मोगली—(हिं. पुं.) एक प्रकार का जंगली वृक्ष ।
 मोघ—(सं. वि.) निरर्थक, निष्फल, हीन; -ता—(स्त्री.) निष्फलता ।
 मोघिया—(हिं. स्त्री.) चौड़ी तथा मोटी नरिया जो खपरैल की छाजन में लगाई जाती है ।
 मोच—(सं. पुं.) केला, सेमल का वृक्ष; (स्त्री.) अंग के किसी जोड़ पर की नस का अपने स्थान से हट जाना जो बहुत पीड़ाकर होता है ।
 मोचक—(सं. वि.) मक्त्तिकारक, छुड़ाने-वाला ।
 मोचन—(सं. पुं.) मोक्ष, मुक्त करना, कांपना, शठता, बंधन आदि खोलना, दूर करना, हटाना, ले लेना; (वि.) छुड़ानेवाला ।
 मोचना—(हिं. क्रि. स.) छुड़ाना, गिराना, वहाना, मुक्त करना; (पुं.) हज्जामों की बाल उखाड़ने की चिमटी ।
 मोचनी—(सं. स्त्री.) भटकटैया ।
 मोचनीय—(सं. वि.) मुक्त करने योग्य ।
 मोचरस—(सं. पुं.) सेमर का गोंद ।
 मोचसार—(सं. पुं.) देखें 'मोचरस' ।
 मोचा—(सं. स्त्री.) सेमर का वृक्ष, केले का वृक्ष, सलई का वृक्ष, नील का पौधा ।
 मोचिनी—(सं. स्त्री.) पोई का साग ।
 मोची—(हिं. पुं.) चर्मकार श्रेणी की एक जाति, (ये लोग जूता बनाते और इसकी मरम्मत करते हैं); (सं. वि.) हटाने या दूर करनेवाला ।
 मोच्य—(सं. वि.) छोड़ देने योग्य ।
 मोच्छ—(हिं. पुं.) देखें 'मोक्ष' ।
 मोछ—(हिं. स्त्री.) देखें 'मूँछ', 'मोक्ष' ।
 मोजा—(फा. पुं.) हाथ या पैर में पहना जानेवाला सूती, ऊनी आदि पहनावा, पायतावा ।
 मोट—(हिं. स्त्री.) गठरी, मोटरी, चमड़े का बड़ा थैला जिससे खेत सींचने

के लिये कुएँ से पानी निकाला जाता है, चरसा; (वि.) मोटा, साधारण, कम मूल्य का ।
 मोटक—(सं. पुं.) श्राद्धादि कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है, यह तीन कुशों का गाँठ देकर बनाया जाता है ।
 मोटकी—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 मोटन—(सं. पुं.) पीसना, आक्षेप, वायु ।
 मोटनक—(सं. पुं.) एक वर्णवृत्त का नाम ।
 मोटरी—(हिं. स्त्री.) गठरी ।
 मोटा—(हिं. वि.) जिसके शरीर में आवश्यकता से अधिक मांस हो, जिसका घेरा साधारण से अधिक हो, जो अच्छी तरह से पीसा न हो, दरदरा, बेडौल, भद्दा, अहंकारी, घमंडी, कठिन, भारी, घटिया, स्थूल बुनावट का; -असामी—(पुं.) घनवान् मनुष्य; -भाग्य—(पुं.) सामान्यवान्; मोटी बात—(स्त्री.) सामान्य वार्ता ।
 मोटाई—(हिं. स्त्री.) मोटा होने का भाव, स्थूलता, गर्व ।
 मोटाना—(हिं. क्रि. अ.) स्थूलकाय होना, मोटा होना, अमीर होना, अभिमानी होना, अहंकारी होना ।
 मोटापन, मोटापा—(हिं. पुं.) मोटा होने का भाव, स्थूलता ।
 मोटिया—(हिं. पुं.) रूक्ष, मोटा, देशी कपड़ा, खदर, बोझ ढोनेवाला कुली ।
 मोटेमल—(हिं. पुं.) मोटा आदमी ।
 मोटायित्त—(सं. पुं.) स्त्रियों के स्वाभाविक दस प्रकार के हावों में से एक हाव या भाव जिसमें नायिका अपने आन्तरिक प्रेम को छिपाने का प्रयत्न करने पर भी उसे छिपा नहीं पाती ।
 मोठ—(हिं. स्त्री.) मूंग की तरह का एक प्रकार का मोटा अन्न ।
 मोठस—(हिं. वि.) मीन, चुप ।
 मोड़—(हिं. स्त्री.) मार्ग में वह स्थान जहाँ से मुड़ा जाता है, घुमाव, मुड़ने का भाव, कागज मोड़ना ।
 मोड़ना—(हिं. क्रि. स.) फेरना, लीटाना, कोई काम करने में आगा-पीछा करना, विमुख होना, किसी फैली हुई वस्तु की तह करना, धार भुथरी करना; (मुहा.) मुँह मोड़ना—पराङ्मुख होना ।
 मोड़ा—(हिं. पुं.) बालक, लड़का ।
 मोड़ी—(हिं. स्त्री.) घसीट लिखने की एक प्रकार की लिपि जिसमें प्रायः मराठी भाषा लिखी जाती है ।
 मोतियदाम—(हिं. पुं.) एक प्रकार का वर्णवृत्त ।

मोतिया-(हि. पुं.) एक प्रकार का बेल (फूल) जिसकी कली मोती के समान गोल होती है, एक प्रकार का सलमा; (वि.) मोती-संबंधी, गोल छोटे दाने का।
मोतियाविद-(हि. पुं.) आँख का एक रोग जिसमें उसके परदे पर गोल झिल्ली सी पड़ जाती है जिसके कारण आँख से दिखाई नहीं पड़ता।
मोती-(हि. पुं.) एक प्रसिद्ध बहुमूल्य रत्न जो छिछले समुद्रों में अथवा उनके रेतीले तटों में सीप में निकलता है, मुक्ता, कसेरों का नक्काशी करने का एक अस्त्र; (स्त्री.) बाली जिसमें बड़े-बड़े मोती जड़े रहते हैं; (मुहा.)-गरजना-मोती का चिटक जाना; **मोतियों** से मुंह भरना-बहुत अधिक धन देना; -चूर-(पुं.) छोटी वृंदियों का लड्डू, एक प्रकार का घान, मल्लयुद्ध का एक युवित; -सिरा-(स्त्री.) छोटी शीतला का रोग, छोटी चेचक; -बेल-(स्त्री.) मोतिया बेल का फूल; -भात-(पुं.) एक विशेष प्रकार का भात; -सिरौ-(स्त्री.) मोतियों की कंठी या माला।
मोथा-(हि.पुं.) नागरमोथा नामक घास, (इसकी जड़ औषधों में प्रयुक्त होती है।)
मोद-(सं. पुं.) हर्ष, आनन्द, सुगन्ध, एक वर्णवृत्त का नाम; -फ-(पुं.) एक साद्य पदार्थ, लड्डू, जड़ी-बूटियों का बना हुआ लड्डू, एक वर्णवृत्त का नाम; (वि.) आनन्द देनेवाला; -फर-(वि.) आनन्द देनेवाला; -कार-(पुं.) मिठाई बनानेवाला, हलवाई।
मोदकी-(सं. स्त्री.) चमेली के फूल का पौधा; (वि.स्त्री.) आनन्द देनेवाली।
मोदन-(सं. पुं.) हर्ष, आनन्द, सुगन्ध।
मोदना-(हि. वि. अ., न.) प्रसन्न होना, प्रसन्न करना, सुगन्ध फैलाना।
मोदनी-(सं. स्त्री.) सफेद जूही।
मोदनीय-(सं. वि.) आनन्द के योग्य।
मोदाड्या-(सं. स्त्री.) प्रसन्न रहनेवाली स्त्री।
मोदित-(सं. वि.) आनन्दित, हर्षमान।
मोदिनी-(सं. स्त्री.) अजगोथा, जूही, मन्तूरी।
मोदी-(हि. पुं.) (आटा, चावल, दाल आदि बंधनेवाला) बन्धन; -गाना-(पुं.) अर्थात् रत्ने का स्थान, मोरम।
मोपक-सं. पुं.) मधुमेरुका लोखंड।
मोप-(हि. वि. अ.) मर, ता-बन्धि।
मोप-(हि. पुं.) देवे 'मोप'।
मोपा-(हि. वि. अ.) पर करवा, भिखार।
 (पुं.) दाम, मूल्य आदि का नाव, विचार।

मोनिया-(हि. स्त्री.) छोटा मोना।
मोपला-(हि. पुं.) मुसलमानों की एक जाति जो मद्रास प्रांत में बसी हुई है।
मोम-(हि. पुं.) हलके पीले रंग का पिघलनेवाला पदार्थ।
मोमना-(हि. वि.) बहुत कोमल।
मोमवत्ती-(हि. स्त्री.) मोम या चरबी को सांचे में ढालकर बनाई हुई बत्ती जो प्रकाश के लिये जलाई जाती है।
मोमी-(हि. वि.) मोम के समान, मोम का बना हुआ।
मोयन-(हि. पुं.) मांडे हुए आटे में घी मिलाना, (ऐसा करने से पकवान खस्ता बनते हैं।)
मोरंग-(हि. पुं.) नेपाल का पूर्वी नाग।
मोर-(हि.पुं.) एक सुन्दर बड़ा पक्षी, नीलम की आभा जो मोर के पर के समान होती है, सेना की अगली पंक्ति; (सर्व.) मेरा।
मोरचंद, मोरचंद्रिका-(हि.पुं,स्त्री.) मोर-पंख के ऊपर की वृंदियाँ।
मोरचा-(फा. पुं.) लोहे के ऊपरी तल पर पड़नेवाली लाल तह जो वायु और तरी से उत्पन्न होती है, दण्ड पर जमी हुई मैल, वह गड़बा जो गड़ के चारों ओर रक्षा के लिये चौदकर बनाया जाता है, वह स्थान जहाँ से सेना गड़ या नगर की रक्षा करती है, वह स्थान जहाँ युद्धरत राष्ट्रों की सेनाएँ लड़ाई करती हैं, वह सेना जो गड़ में रहकर शत्रु से लड़ती है; (मुहा.)-दंडी करना-गड़ के चारों ओर सेना नियुक्त करना; -बांधना-मोरचा बनाना; -मारना-गड़ के गड़ आदि पर अधिकार कर लेना; -लेना-युद्ध करना।
मोरछल-(हि. पुं.) मोर की पूंछ के परों को झकड़ा चौधकर बनाया हुआ चोंवर जो देवताओं तथा राजाओं के मस्तक पर डुलाया जाता है।
मोरछली-(हि. स्त्री.) देवे 'मोलिरी', मोरछल हिलानेवाली।
मोरछाह-(हि. पुं.) देवे 'मोरछल'।
मोरजूटना-(हि.पुं.) एक प्रकार का मूल्य का आभूषण जिसमें रत्न जड़े होते हैं।
मोरट-(सं. पुं.) लता की जड़, एक प्रकार की लता।
मोरन-(हि. स्त्री.) मोरने की शक्ति का भाव, शीघ्रता का सिंगम (परी का कला तथा मात पराएँ)।
मोरना-(हि. वि. अ.) देवे 'मोरना', दूरी को मरकर मराना दिखातना।
मोरनी-(हि. स्त्री.) मोर कमी की मांस,

छोटा टिकरा जो नभ में पिरोगा जाता है।
मोरपंख-(हि. पुं.) मोर का पर।
मोरपंखी-(हि. स्त्री.) वह नाव जिसका अगला भाग मोर की तरह बना और रंगा रहता है, मलयम का एक व्यापार; (पुं.) एक प्रकार का चमकीला और गहरा नीला रंग; (वि.) गहरा नीला।
मोरपंखा-(हि. पुं.) मोर का पर, मोर के पंख की बनी हुई कलंगी।
मोरमुकुट-(हि. पुं.) मोर के पंख का बना हुआ मुकुट।
मोरवा-(हि. पुं.) देवे 'मोर', नाव की किलवारी में बांधने की रस्ती।
मोरगिता-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की जड़ी जिसकी पत्तियाँ मोर की कंधे की के आकार की होती हैं।
मोरा-(हि. सर्व.) मेरा; (पुं.) अर्वाक नामक रत्न का एक भेद।
मोराना-(हि. वि. अ.) चारों ओर घूमना, फिराना, परने के लिए रंग की अंगारी कोलू में डालना।
मोरिया-(हि. स्त्री.) कोन्क की कसरी में लना हुआ बाँस।
मोरी-(हि. स्त्री.) मूला पानी बनने की नाली, परनाली, मोहरी, धवियों की एक जाति।
मोर्चा-(हि. पुं.) देवे 'मोरना'।
मोल-(हि. पुं.) मूल्य, दाम; (वि. प्र.) -करना-आपारी ना किसी वस्तु का दाम बढ़ाकर पढ़ना; -चाल-(पुं.) किसी वस्तु का दाम पटाकर मोटा रूप करना।
मोलना-(हि. पुं.) मोलाना, मोलनी।
मोलना-(हि. वि. अ.) किसी वस्तु का दाम घटाना अथवा मूल्य स्थिर करना।
मोपना-(हि. वि. अ.) देवे 'मोपा'।
मोप-(सं. पुं.) मोरी, लूट, डप; (हि. पुं.) देवे 'मोप'।
मोपक-(सं. पुं.) मन्कर, मोर।
मोपक-(सं. पुं.) लूटना, मोरी करना, लप करना।
मोह-(सं. पुं.) अविद्या, मूर्खता, अज्ञान, दुःख, कष्ट, अशान्ति, वैम, अविद्या के ३३ प्रकारों में से एक भाव, जिसे ही वह अविद्या को लप, दुःख, विमर्श आदि से जाना जाता है।
मोहक-(सं. वि.) मोह घटाने अथवा मोह को उत्पन्न करने का अर्थवाचक।
मोहन-(हि. पुं.) मोह का मोहना।
मोहना-(हि. वि. अ.) लप करना, लप डालना।

मोहड़ा—(हिं. पुं.) किसी पात्र का मुख या खुला भाग, किसी वस्तु का अगला या ऊपरी भाग, मुँह, मुख, मोहरा।
मोहजनक—(सं. वि.) मोह उत्पन्न करने वाला।
मोहताज—(हिं. वि.) धनहीन, अभावग्रस्त।
मोहताजी—(हिं. स्त्री.) धनहीनता।
मोहन—(सं. पुं.) धतूरे का पौधा, मोहने वाला व्यक्ति, जिसको देखकर मन लुभा-जाय, श्रीकृष्ण, एक प्रकार का वर्ण-वृत्त, एक प्रकार का तांत्रिक प्रयोग जिससे किसी को मूर्च्छित करते हैं, शत्रु को मूर्च्छित करने का एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र, कोल्हू में वह स्थान जहाँ पेरने के लिये ऊख लगाई जाती है, बारह मात्राओं का एक ताल, काम-देव के पाँच वाणों में से एक; (हिं. वि.) मोह उत्पन्न करनेवाला; —**भोग**—(पुं.) एक प्रकार का हलुवा, एक प्रकार का केला, एक प्रकार का आम; —**माला**—(स्त्री.) सोने के दानों की बनी हुई माला।
मोहना—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की बमेली; (हिं. क्रि. अ., स.) किसी पर अनुरक्त होना या रीझना, मूर्च्छित होना, मोहित करना, लुभाना, धोखा देना, भ्रम में डालना।
मोहनास्त्र—(सं. पुं.) प्राचीन काल का शत्रु को मूर्च्छित करनेवाला एक अस्त्र।
मोहनिद्रा—(सं. स्त्री.) मोहरूपी निद्रा।
मोहनी—(सं. स्त्री.) पीई का साग, बट-पत्री, पत्थरफोड़, माया, वैशाख सुदी एकादशी, एक प्रकार का लंबा कीड़ा। वह स्त्री का रूप जो भगवान् ने समुद्र-मंथन के बाद अमृत बाँटते समय धारण किया था, एक वर्णवृत्त का नाम, वशी-करण मंत्र; (वि.) चित्त को लुभाने वाली; (मुहा.)—**डालना**—अपने वश में कर लेना; —**लगाना**—वश में करना।
मोहनोय—(सं. वि.) मोहित करने योग्य।
मोहफिल, महफिल—(हिं. स्त्री.) सभा।
मोहव्वत—(हिं. स्त्री.) प्रेम, मुहव्वत।
मोहयंत्र—(सं. पुं.) मोह उत्पन्न करने का मंत्र।
मोहयिता—(सं. पुं.) मोहनेवाला।
मोहरा—(हिं. पुं.) किसी पात्र का मुख या खुला हुआ भाग, सेना की अगली पंक्ति जो चढ़ाई करती है, सेना की गति, किसी पदार्थ का ऊपरी या अगला भाग, एक प्रकार की जाली जो बेल के मुँह में बाँधी जाती है, चोली आदि का

बंद, छेद, शतरंज की गोटी।
मोहरात्रि—(सं. स्त्री.) वह प्रलय जो ब्रह्मा के पचास वर्ष बीतने पर होता है, जन्मा-ष्टमी की रात्रि।
मोहरी—(हिं. स्त्री.) किसी पात्र का छोटा मुख अथवा खुला भाग, पाजामे का वह भाग जिसमें टाँगें रहती हैं, एक प्रकार की मधुमक्खी, मोरी।
मोहल्ला—(हिं. पुं.) देखें 'मुहल्ला'।
मोहशास्त्र—(सं. पुं.) अविद्याजनक ग्रन्थ।
मोहार—(हिं. पुं.) द्वार, मोहड़ा, अगला भाग, मधुमक्खी का छत्ता, भौरा।
मोहारनी—(हिं. स्त्री.) पाठशाले में बालकों का एक साथ खड़े होकर पढ़ाई पढ़ना।
मोहिं—(हिं. सर्व.) मुझ, मुझको।
मोहित—(सं. वि.) सुगंध, भ्रम में पड़ा हुआ, आसक्त, मोहा हुआ।
मोहिनी—(सं. वि., स्त्री.) मोहनेवाली; (स्त्री.) बेल का फूल, पत्थरफोड़, विष्णु का मोहनी अवतार, जादू, माया, वैशाख शुक्ल एकादशी का नाम, एक अर्धसम-वृत्त का नाम, पंद्रह अक्षरों का एक वर्णवृत्त।
मोही—(हिं. वि.) मोहित करनेवाला, प्रेम करनेवाला, अज्ञानी, भ्रम या अविद्या में पड़ा हुआ, लोभी, लालची।
मोहक—(हिं. वि.) मोह करनेवाला।
मोहेला—(हिं. पुं.) एक प्रकार का चलता गाना।
मोहेली—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मछली।
मोहोपमा—(सं. स्त्री.) उपमा अलंकार का एक भेद।
मौगी—(हिं. वि., स्त्री.) मौन, चुप।
मौज—(सं. वि.) मूँज का बना हुआ।
मौजी—(सं. स्त्री.) मूँज की बनी हुई मेखला।
मौजीबंधन—(सं. पुं.) यज्ञोपवीत संस्कार।
मौका—(अ. पुं.) अवसर।
मौवितक—(सं. पुं.) मुक्ता, मोती; —**तंडुल**—(पुं.) बड़ी ज्वार; —**दाम**—(पुं.) एक वर्णिक वृत्त; —**माला**—(स्त्री.) एक वर्णिक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर होते हैं; —**शुक्ति**—(स्त्री.) सीप।
मौख—(सं. पुं.) वह पाप जो अभक्ष्य-भक्षण से होता है, एक प्रकार का मसाला; (वि.) मुख-सम्बन्धी।
मौखर—(सं. पुं.) बहुत बड़-बड़कर बातें करना।
मौखरी—(सं. पुं.) उत्तर भारत का प्राचीन राजवंश।
मौख्य—(सं. पुं.) बहुत बड़-बड़कर बोलना, मुखरना।

मौखिक—(सं. वि.) मुख-सम्बन्धी, मुख का।
मौख्य—(सं. पुं.) प्रधानता।
मौगा—(हिं. पुं.) निर्बुद्धि, हिजड़ा।
मौगी—(हिं. स्त्री.) स्त्री।
मौज—(फा. पुं.) आनन्द, प्रसन्नता, विनोद।
मौजी—(हिं. वि.) मनमाना काम करने वाला, आनन्दी, सर्वदा प्रसन्न रहने वाला, जो जी में आवे वही करनेवाला।
मौजू—(अ. वि.) उपयुक्त।
मौड़ा—(हिं. पुं.) मोड़ा।
मौत—(फा. स्त्री.) मृत्यु, मरण।
मौदक—(सं. वि.) मौदक-संबंधी।
मौद्गल—(सं. पुं.) मुद्गल ऋषि के गोत्र में उत्पन्न।
मौद्गलि—(सं. पुं.) काक, कौआ।
मौन—(सं. पुं.) न बोलने की क्रिया या भाव, चुप्पी, मुनियों का एक व्रत, फाल्गुन महीने का पहला पक्ष; (वि.) चुप, जो न बोले; (हिं. पुं.) मूँज का बना हुआ पिटारी, डब्बा, पात्र; (मुहा.)—**ग्रहण करना**—चुप रहना, न बोलना; —**तजना**—बोलने लगना, मौन त्यागना; —**साधना**—गूंगा बन जाना।
मौनव्रत—(सं. पुं.) चुप रहने का व्रत।
मौनता—(सं. स्त्री.) चुप रहने का भाव।
मौना—(हिं. पुं.) घी या तेल रखने का पात्र, मूँज की बनी हुई पिटारी।
मौनत्व—(सं. पुं.) मौनी का भाव, मौन।
मौनी—(हिं. वि.) मौन व्रत धारण करनेवाला; (पुं.) चुप रहनेवाला साधु।
मौर—(हिं. पुं.) चमकीले कागज आदि का बना हुआ एक प्रकार का शिरोभूषण जो विवाह के समय वर को पहनाया जाता है; (वि.) शिरोमणि, प्रधान, सरदार; (पुं.) गरदन का पिछला भाग, मंजरी, बौर।
मौरना—(हिं. क्रि. अ.) वृक्षों पर मंजरी लगाना, बौरना।
मौरसिरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'मौलसिरी'।
मौरी—(हिं. स्त्री.) बघू के सिर पर रखने का छोटा मौर।
मौख्य—(सं. पुं.) मूर्खता का भाव, वेकूफी।
मौर्य—(सं. पुं.) मुरा का अपत्य, चन्द्रगुप्त, भारत का एक प्राचीन क्षत्रिय राजवंश।
मौलवी—(अ. पुं.) इस्लामी धर्म-शास्त्र का पंडित।
मौलसिरी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष जिसमें छोटे-छोटे सुगन्धित फूल होते हैं।
मौलि—(सं. पुं.) मस्तक, सिर, किरिट, जूड़ा, प्रधान व्यक्ति, सरदार, भूमि,

अशोक वृक्ष ।

मौलिक-(सं. वि.) मूल-सम्बन्धी ।

मौलिकता-(सं. स्त्री.) मौलिक होने का भाव ।

मौलिमंडन-(सं. पुं.) एक प्रकार का शिरोभूषण ।

मौल्य-(सं. वि.) मूल्य-सम्बन्धी ।

मौसा-(हिं. पुं.) माता की वहिन का पति ।

मौसियउत, मौसियायत-(हिं. वि.) मौसरा ।

मौसी-(हिं. स्त्री.) माता की वहिन, मौसी ।

मौसेरा-(हिं. वि.) मौसी के सम्बन्ध का ।

मौहूर्त-(सं. वि.) मुहूर्त-सम्बन्धी ।

म्याँव-(हिं. स्त्री.) विल्ली की बोली; (मुहा.)-म्याँव करना-डरकर धीमी बोली बोलना ।

म्यान-(फा. पुं.) तलवार, कटार आदि के फल को सुरक्षित रखने का कोष ।

म्याना-(हिं. क्रि. स.) म्यान में रखना ।

म्यों-(हिं. स्त्री.) विल्ली की बोली ।

म्योंडी-(हिं. स्त्री.) एक सदावहार वृक्ष, निर्गुण्डी ।

म्रियमाण-(सं. वि.) मृततुल्य, मृतप्राय ।

म्लान-(सं. वि.) कुम्हलाया हुआ, मलिन, दुर्बल; (पुं.) म्लानि, शोक; -ता-(स्त्री.) मलिनता ।

म्लिष्ट-(सं. वि.) जो स्पष्ट न बोलता हो ।

म्लेच्छ-(सं. पुं.) वर्णाश्रम-हीन जाति; (वि.) पामर, नीच, सर्वदा पाप करनेवाला ।

म्हा-(हिं. सर्व.) देखें 'मुझे' ।

म्हारा-(हिं. सर्व.) हमारा ।

य

य-हिन्दी वर्णमाला का छव्वीसवाँ अक्षर; इसका उच्चारण स्थान तालु है। यह स्पर्श-वर्ण और ऊष्म-वर्ण के बीच का वर्ण है। इसलिये इसको अन्तःस्थ वर्ण कहते हैं ।

यंत-(सं. पुं.) सारथी, महावत ।

यंतव्य-(सं. वि.) दमन करने योग्य ।

यंता-(सं. पुं.) सारथी ।

यंत्र-(सं. पुं.) नियंत्रण, किसी विशेष कार्य के लिए बनाया हुआ उपकरण, कान, मशीन, तोप या बंदूक, कोई अस्त्र या शस्त्र, वाद्य, वाजा, ताला, तन्त्र के अनुसार विशिष्ट प्रकार के बने हुए कोष्ठक आदि, जंतर ।

यंत्रगृह-(सं. पुं.) वेद्यशाला, कारखाना ।

यंत्रण-(सं. पुं.) रक्षण, रक्षा करना, बन्धन, बांधना, नियम ।

यंत्रणा-(सं. स्त्री.) वेदना, यातना, कष्ट ।

यंत्रनाल-(सं. पुं.) कुएँ में से पानी निकालने की कल ।

यंत्रपेवणी-(सं. स्त्री.) पीसने की चक्की ।

यंत्रप्रवाह-(सं. पुं.) पानी फेंकने का यंत्र, दमकल ।

यंत्रमंत्र-(सं. पुं.) जादू-टोना ।

यंत्रराज-(सं. पुं.) ग्रहों तथा तारों की गति जानने का यंत्र ।

यंत्रविद्या-(सं. स्त्री.) कलों के निर्माण और चलाने की विद्या ।

यंत्रशाला-(सं. स्त्री.) वेद्यशाला, कारखाना ।

यंत्रसूत्र-(सं. पुं.) वह सूत जिसकी सहायता से कठपुतली नचाई जाती है ।

यंत्रालय-(सं. पुं.) मुद्रालय, छापाखाना, कारखाना ।

यंत्राश-(सं. पुं.) एक राग का नाम ।

यंत्रिका-(सं. स्त्री.) छोटी ताली, छोटा यंत्र ।

यंत्रित-(सं. वि.) जो यंत्र द्वारा बंद किया या रोका गया हो, ताला लगा हुआ ।

यंत्री-(हिं. पुं.) यंत्र-मंत्र करनेवाला, तान्त्रिक, वाजा बजानेवाला ।

यंत्रोपल-(सं. पुं.) चक्की का पत्थर ।

यंद-(हिं. पुं.) स्वामी, मालिक ।

यकार-(सं. पुं.) 'य' स्वरूप वर्ण ।

यच्छत-(सं. स्त्री.) पेट की दाहिनी ओर की एक थैली जिसमें पाचन रस रहता है और जिसकी क्रिया से भोजन पचता है, जिगर, वह रोग जिसमें यकृत फूल तथा बड़ जाता है ।

यकोला-(हिं. पुं.) एक प्रकार का मशौले आकार का वृक्ष जिसकी लकड़ी सफेद और पुष्ट होती है ।

यक्ष-(सं. पुं.) देवयोनि विशेष, कुबेर का अनुचर, धनरक्षक; -कर्म-(पुं.) एक प्रकार का अंग-राग; -ण-(पुं.) भोजन करना, पूजन करना; -तरु-(पुं.) वर का पेड़; -ता-(स्त्री.) यक्ष का भाव या धर्म; -त्व-(पुं.) यक्ष का भाव या धर्म; -नायक-(पुं.) यक्षों के स्वामी, कुबेर; -प-(पुं.) यक्षपति; -पति-(पुं.) कुबेर; -पुर-(पुं.) अलकापुरी; -भूत-(वि.) जिसकी पूजा की गई हो; -रत्न-(पुं.) फूलों से बनाई हुई मंदिरा; -राज-(पुं.) यक्षों के राजा कुबेर; -रात्रि-(स्त्री.) कात्तिक की पूर्णिमा; -लोक-(पुं.) वह लोक जिसमें यक्षों का वास माना जाता है; -चित्त-(वि.) जो मन का व्यय न करे, कृपण, कंजूस; (पुं.)

यक्ष का धन; -साधन-(पुं.) यक्ष की उपासना ।

यक्षाधिप, यक्षाधिपति-(सं. पुं.) यक्ष-पति, कुबेर ।

यक्षामलक-(सं. पुं.) पिण्डखजूर ।

यक्षावास-(सं. पुं.) वरगद का वृक्ष ।

यक्षिणी-(सं. स्त्री.) यक्ष की पत्नी, कुबेर की स्त्री, दुर्गा की एक अनुचरी ।

यक्षी-(सं. स्त्री.) यक्ष की पत्नी; (पुं.) वह जो यक्ष की उपासना करता हो या उसको साधता हो ।

यक्षेत्र, यक्षेश्वर-(सं. पुं.) यक्षों के स्वामी, कुबेर ।

यक्ष्म-(सं. पुं.) क्षय नामक रोग ।

यक्ष्मा-(सं. पुं.) क्षय नामक रोग ।

यगण-(सं. पुं.) छन्दःशास्त्र के आठ गणों में से एक जिसमें पहिला वर्ण लघु तथा बाद के दो वर्ण गुरु होते हैं ।

यगूर-(हिं. पुं.) एक प्रकार का बहुत ऊँचा पहाड़ी वृक्ष जिसकी लकड़ी काले रंग की होती है ।

यय-(हिं. पुं.) देखें 'यज्ञ' ।

यच्छ-(हिं. पुं.) देखें 'यक्ष' ।

यच्छत्-(सं. वि.) दान देनेवाला, चित्त हटानेवाला ।

यच्छिनी-(हिं. स्त्री.) देखें 'यक्षिणी' ।

यज-(सं. पुं.) यज्ञ, अग्नि ।

यजत-(सं. पुं.) ऋत्विक् ।

यजति-(सं. पुं.) यज्ञ, याग ।

यजत्र-(सं. पुं.) यज्ञ करनेवाला, अग्निहोत्री ।

यजन-(सं. पुं.) यज्ञ करना; -कर्ता-(पुं.) हवन अथवा यज्ञ करनेवाला ।

यजनीय-(सं. वि.) यज्ञ करने योग्य ।

यजमान-(सं. पुं.) वह जो यज्ञ करता हो, ब्राह्मणों को दान देनेवाला, शिव की आठ मूर्तियों में से एक मूर्ति; -त्व-(पुं.) यजमान का भाव या धर्म ।

यजमानो-(हिं. स्त्री.) यजमान का भाव या धर्म, पुरोहित की वृत्ति, वह स्थान जहाँ किसी पुरोहित के यजमान रहते हैं ।

यजाक-(हिं. वि.) दान देनेवाला ।

यजिष्णु-(सं. वि.) यज्ञ करनेवाला ।

यजुः-(सं. पुं.) यजुर्वेद ।

यजुर्वेद-(सं. पुं.) चार प्रसिद्ध वेदों में से एक जिसमें विनोदतया यज्ञकर्म का विस्तृत वर्णन है ।

यजुर्वेदी-(हिं. वि.) यजुर्वेद का ज्ञाने-वाला, यजुर्वेद के अनुसार सब कृत्य करनेवाला ।

यजु यजुश्रुति-(सं. स्त्री.) यजुर्वेद ।

यजुष्पति-(सं. पुं.) विष्णु ।
यजुष्य-(सं. वि.) यज्ञ-संबंधी ।
यजुस्-(सं. पुं.) यजुर्वेद ।
यज्ञ-(सं. पुं.) याग, इष्टि, मख, वह वैदिक कृत्य जिसमें सभी देवताओं का पूजन तथा घृतादि द्वारा हवन होता है; -क, -कर्ता-(पुं.) यज्ञ करनेवाला; -कल्प-(पुं.) विष्णु; -काम-(वि.) यज्ञ की इच्छा करनेवाला; -काल-(पुं.) पौर्णमासी, पूर्णिमा; -कौलक-(पुं.) लकड़ी का वह खंड जिसमें यज्ञ के लिये बलि दिया जानेवाला पशु बांधा जाता है; -कुंड-(पुं.) वह कुंड या वेदी जिसमें हवन किया जाता है; -कृत्-(वि.) यज्ञ करनेवाला; -केतु-(पुं.) एक राक्षस का नाम; -क्रिया-(स्त्री.) यज्ञ के काम, कर्म-काण्ड; -गिरि-(पुं.) पुराण के अनुसार एक पर्वत का नाम; -गुप्त-(पुं.) एक प्रसिद्ध जैनाचार्य का नाम; -घ्न-(पुं.) यज्ञ का नाश करनेवाला, राक्षस; -छाग-(पुं.) यज्ञ में बलि देने का वकरा; -त्राता-(पुं.) यज्ञ की रक्षा करनेवाले विष्णु; -दक्षिणा-(स्त्री.) वह दक्षिणा जो यज्ञ समाप्त हो जाने पर यज्ञ करानेवाले पुरोहित को दी जाती है; -दीक्षा-(स्त्री.) यज्ञ-विषयक दीक्षा; -घर-(पुं.) विष्णु; -घूप-(पुं.) घूना का वृक्ष; -नेमि-(पुं.) श्रीकृष्ण; -पति-(पुं.) यजमान, वह जो यज्ञ कराता हो, विष्णु; -पत्नी-(स्त्री.) यज्ञ की पत्नी, दक्षिणा; -पथ-(पुं.) यज्ञ की प्रणाली; -पशु-(पुं.) वह पशु जिसका यज्ञ में बलिदान किया जाय, वकरा, घोड़ा; -पात्र-(पुं.) काठ के बने हुए पात्र जो यज्ञ में काम आते हैं; -पादप-(पुं.) कंटकी नामक वृक्ष; -पाल-(पुं.) यज्ञ का संरक्षक; -पुच्छ-(पुं.) यज्ञ का शेष; -पुरुष-(पुं.) यज्ञरूपी पुरुष, विष्णु; -फलद-(पुं.) विष्णु; -बंधु-(पुं.) यज्ञ-कर्म का सहकारी; -बाहु-(पुं.) अग्नि का एक नाम; -भाग-(पुं.) यज्ञ का अंश जो देवताओं को दिया जाता है, देवता जिनको यज्ञ का भाग मिलता है; -भाजन, -भांड-(पुं.) यज्ञपात्र; -भावन-(पुं.) विष्णु; -भूमि-(स्त्री.) वह स्थान जहाँ यज्ञ होता है, यज्ञस्थान; -भूषण-(पुं.) कुश; -भूत, -भोक्ता-(पुं.) विष्णु; -मंडप-

(पुं.) यज्ञ करने के लिये जो मण्डप बनाया गया हो, यज्ञवेदी; -मंडल-(पुं.) वह स्थान जो यज्ञ करने के लिये घेरा गया हो; -मंदिर-(पुं.) यज्ञ-शाला; -मय-(पुं.) यज्ञस्वरूप, विष्णु; -महोत्सव-(पुं.) यज्ञ के निमित्त कोई बड़ा उत्सव; -मित्र-(वि.) एक प्रसिद्ध जैन साधु का नाम; -मुख-(पुं.) यज्ञ का आरम्भ; -यूप-(पुं.) वह खंभा जिसमें यज्ञ का बलि-पशु बांधा जाता है; -योग्य-(पुं.) गूलर का पेड़; -रस-(पुं.) सोम; -राज-(पुं.) चन्द्रमा; -रिंग-(पुं.) श्रीकृष्ण का एक नाम; -वर्धन-(वि.) यज्ञ को बढ़ानेवाला; -वराह-(पुं.) विष्णु; -वल्क-(पुं.) याज्ञवल्क्य के पिता; -वल्ली-(स्त्री.) सोमलता; -वाट-(पुं.) यज्ञशाला; -वाहन-(पुं.) शिव, विष्णु, ब्राह्मण; -वाही-(वि.) यज्ञ का काम करनेवाला; -वीर्य-(पुं.) विष्णु; -वृक्ष-(पुं.) कंटकी का पेड़; -व्रत-(वि.) यज्ञ करनेवाला; -शत्रु-(पुं.) राक्षस; -शाला-(स्त्री.) यज्ञगृह, यज्ञ करने का स्थान; -शास्त्र-(पुं.) वह शास्त्र जिसमें यज्ञों और उनके कृत्यों का विवेचन रहता है; -शील-(वि.) यज्ञ करनेवाला; -शेष-(पुं.) यज्ञ का अवशिष्ट या शेष भाग; -श्री-(स्त्री.) यज्ञ का घन; -श्रेष्ठा-(स्त्री.) सोमलता; -संस्तर-(पुं.) यज्ञभूमि, सफेद कुश; -संस्था-(स्त्री.) यज्ञ का स्वरूप; -सदन-(पुं.) यज्ञ-स्थान; -साधन-(वि.) यज्ञ की रक्षा करनेवाला; (पुं.) विष्णु; -साधनी-(स्त्री.) सोमलता; -सार-(पुं.) गूलर का पेड़; -सिद्धि-(स्त्री.) यज्ञ की समाप्ति; -सूत्र-(पुं.) यज्ञोपवीत, जनेऊ; -सेन-(पुं.) विदर्भ के एक प्राचीन राजा का नाम; -स्तंभ-(पुं.) यज्ञयूप; -स्थाणु-(पुं.) वह खंभा जिसमें यज्ञ में बलि देने का पशु बांधा जाता है; -स्थान-(पुं.) वह स्थान जहाँ यज्ञ किया जाता है; -हन्-(वि., पुं.) यज्ञ में विघ्न करनेवाला, राक्षस; -हृदय-(पुं.) विष्णु; -होता-(पुं.) यज्ञ में देवताओं का आवाहन करनेवाला ।
यज्ञांग-(सं. पुं.) खैर का वृक्ष, गूलर का पेड़, यज्ञ का अवयव या अंग ।
यज्ञांगी-(सं. स्त्री.) सोमलता ।
यज्ञांश-(सं. पुं.) यज्ञ का अंश या भाग ।

यज्ञांशभुज्-(सं. पुं.) देवतागण ।
यज्ञागार-(सं. पुं.) यज्ञशाला ।
यज्ञात्मा-(सं. पुं.) विष्णु ।
यज्ञाधिपति-(सं. पुं.) यज्ञ के स्वामी, विष्णु ।
यज्ञारि-(सं. पुं.) शिव, राक्षस ।
यज्ञार्थ-(सं. अव्य.) यज्ञ के निमित्त ।
यज्ञाशन-(सं. पुं.) देवता ।
यज्ञेश्वर-(सं. पुं.) विष्णु ।
यज्ञोपकरण-(सं. पुं.) वह वस्तु जो यज्ञ के काम में आती है ।
यज्ञोपवीत-(सं. पुं.) ब्रह्मसूत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का एक संस्कार, उपनयन, व्रतवन्ध, जनेऊ ।
यज्ञोपासक-(सं. पुं.) वह जो यज्ञ करता हो यज्य-(सं. वि.) यजन करने योग्य ।
यज्वा-(सं. पुं.) यज्ञ करनेवाला ।
यडर-(हिं. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।
यत-(सं. वि.) शासित, दमन किया हुआ ।
यतन-(सं. पुं.) देखें 'यत्न' ।
यतनीय-(सं. वि.) यत्न करने योग्य ।
यतमान-(सं. वि.) यत्न करता हुआ ।
यतव्य-(सं. वि.) प्रयत्न करनेवाला ।
यतव्रत-(सं. वि.) बड़े संयम से रहनेवाला यतात्मा-(सं. पुं.) संयमी ।
यति-(सं. पुं.) भिक्षुक, संन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी, त्यागी, जिसने संसार का त्याग किया है, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम, छप्पय छन्द का एक भेद; (स्त्री.) छंद पढ़ने में जहाँ-जहाँ विश्राम किया जाता है, विरति, विराम, यमन, प्रतिबन्ध; -त्व-(पुं.) यति का कर्म या भाव; -धर्म-(पुं.) संन्यास; -नी-(स्त्री.) संन्यासिनी, विधवा; -भंग-(पुं.) काव्य का वह दोष जिसमें यति अपने उचित स्थान पर न पड़कर आगे-पीछे पड़ती है जिससे पढ़ने में छन्द का लय बिगड़ जाता है; -भ्रष्ट-(पुं.) यतिभंग दोष से युक्त छन्द; -सतितपन-(पुं.) एक प्रकार का चान्द्रायण व्रत ।
यती-(सं. पुं.) देखें 'यति', जितेन्द्रिय ।
यतुका-(सं. स्त्री.) चकवेंड का पौधा ।
यतोद्भव-(सं. वि.) जहाँ से उत्पत्ति हो ।
यत्किंचित्-(सं. वि.) थोड़ा-सा, बहुत कम ।
यत्न-(सं. पुं.) रूप आदि चौबीस गुणों के अन्तर्गत एक गुण, उद्योग, उपाय, उपचार, रोग-शान्ति का उपाय; -वान्-(वि.) यत्न करनेवाला ।
यत्नाक्षेप-(सं. पुं.) अलंकार-शास्त्रोक्त आक्षेप का एक भेद ।

यत्र-(सं. अव्य.) जहाँ, जिस जगह;
 -तत्र-(अव्य.) जहाँ-तहाँ, कहीं-कहीं;
 -तत्रस्य-(वि.) जहाँ-तहाँ रहनेवाला।
 यथार्थ-(सं. अव्य.) यथा समय।
 यथांश-(सं. अव्य.) अंश के अनुसार।
 यथा-(सं. अव्य.) जैसे, ज्यों; -कर्तव्य-(वि.) कर्तव्य के अनुरूप, जैसा करना चाहिये; -कर्म-(अव्य.) कर्म के अनुसार; -कल्प-(अव्य.) शास्त्र के अनुसार; -काम-(अव्य.) इच्छानुसार; -कामी-(वि.)स्वेच्छाचारी; -काम्य-(वि.) यथेष्ट; -काय-(अव्य.) काया के अनुसार; -कार्य-(अव्य.) जैसा करना चाहिए; -काल-(अव्य.) उपयुक्त समय पर; -कुल-(अव्य.) कुलधर्म के अनुसार; -धर्म-(अव्य.) धर्मानुसार, धर्म का जैसा नियम हो उसी के अनुसार; -कृत-(अव्य.) रीति के अनुसार; -क्रम-(अव्य.) क्रमानुसार, क्रमशः; -क्षम-(अव्य.) यथाशक्ति; -गात्र-(अव्य.) देह-देह में, प्रत्येक शरीर में; -गुण-(अव्य.) गुण के अनुरूप; -गृह-(अव्य.) घर के समान; -चिन्तित-(वि.) चिन्तानुसार; -जात-(वि.) मूर्ख, नीच; -जाति-(अव्य.) जाति के अनुसार; -ज्ञप्त-(वि.) जैसी आज्ञा दी गयी हो; -ज्ञान-(अव्य.) ज्ञान के अनुसार; -सत्त्व-(अव्य.) यथार्थ; -तय-(वि.) यथार्थ, उचित; -तय्य-(अव्य.) जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों, सत्यतः; -दत्त-(वि.) जैसा दिया गया हो; -दर्शन-(अव्य.) देखने के अनुसार; -दीक्षा-(अव्य.) दीक्षा के अनुसार; -दृष्ट-(अव्य.) जैसा देखा गया हो; -धर्म-(अव्य.) धर्म के अनुसार; -नियम-(अव्य.) नियमानुसार; -न्याय-(वि., अव्य.) यथोचित, न्याय के अनुसार; -प्रदृष्ट-(वि.) जैसी आज्ञा दी गई हो; -पूर्व-(अव्य.) पहिले के समान, ज्यों का त्यों; -प्राण-(अव्य.) शक्ति के अनुसार; -प्रापित-(अव्य.) जैसी प्रार्थना की गई हो; -प्रीति-(अव्य.) प्रेम के अनुसार; -बल-(अव्य.) न्यायशक्ति, बल के अनुसार; -बुद्धि-(अव्य.) बुद्धि के अनुसार; -भयित-(अव्य.) भक्ति के अनुसार; -भक्षित-(वि.) जिस तरह खाया गया हो; -भाग, -भाजन-(अव्य.) भाग या पान के अनुसार; -मति-(अव्य.) बुद्धि के अनुसार; -मुख्य-(अव्य.) प्रधानता

से; -म्नाय-(अव्य.) वेदों के अनुसार; -यव-(वि.) तुल्य, समान; -युक्ति-(अव्य.) युक्ति के अनुसार; -युक्त-(वि.) यथोचित; -योग्य-(अव्य.) योग्यतानुसार; -रचि-(अव्य.) रचि के अनुसार; -रूप-(अव्य.) रूप के अनुसार; -लब्ध-(वि.) जितना प्राप्त हो सके उसके अनुसार; -लाभ-(अव्य.) जो कुछ मिले उसके अनुसार; -वत्-(अव्य.) पूर्ववत्, जैसा का तैसा, जैसा चाहिये वैसा, अच्छी तरह से; -विष-(अव्य.) जिस प्रकार से; -विधि-(अव्य.) विधिपूर्वक; -विहित-(अव्य.) विधि के अनुसार; शक्य-(अव्य.) सामर्थ्य भर; -शक्ति-(अव्य.) सामर्थ्य के अनुसार, जितना हो सके; -शास्त्र, -श्रुत-(अव्य.) शास्त्र के अनुसार; -धृति-(अव्य.) धृति के अनुकूल; -संदिष्ट-(अव्य.) जैसा कहा गया हो; -संभव-(अव्य.) शक्ति के अनुसार; -संहिते-(अव्य.) संहिता के अनुसार; -संकल्पित-(अव्य.) जैसा मन में संकल्प किया गया हो; -सत्य-(अव्य.) मित्रता के भाव से; -समय-(अव्य.) समय के अनुसार, जैसा समय हो वैसा; -साध्य-(अव्य.) यथाशक्ति; -स्तुत-(अव्य.) जैसी स्तुति की गई हो; -स्यान-(अव्य.) ठीक स्यान पर; -स्थित-(वि.) सत्य, ठीक, स्थिर; -स्थिति-(स्त्री.) जैसी स्थिति थी -स्मृति-(अव्य.) स्मृति के प्रमाण के अनुसार; -स्व-(अव्य.) इच्छानुसार; -स्वैर-(अव्य.) चित्त के अनुसार।

यथाकार-(सं. अव्य.) आकार के अनुसार।
 यथागत-(सं. अव्य.) आगत के अनुसार।
 यथागम-(सं. अव्य.) आगम के अनुसार।
 यथाचार-(सं. अव्य.) आचार के अनुसार।
 यथाचारी-(सं. वि.) आचार के अनुसार चलनेवाला।
 यथात्मक-(सं. वि.) प्रकृति के अनुसार।
 यथादृष्ट-(सं. वि.) जैसा कहा गया हो।
 यथानिकाम-(सं. अव्य.) रचि के अनुसार।
 यथानिरुचि-(सं. अव्य.) रचि के अनुसार।
 यथानिलपित-(सं. वि.) जैसा अनिलपित हो।
 यथानिलिखित-(सं. वि.) जैसा अनिलिखित हो।
 यथारंभ-(सं. अव्य.) आरंभ के अनुसार।
 यथापे-(सं. अव्य.) मन्त्र शेष जैसा

होना चाहिये वैसा, जैसा का तैसा, ठीक; -ता-(स्त्री.) यथार्थ होने का भाव, सत्यता।

यथावकाश-(सं. अव्य.) अवकाश के अनुसार।

यथाहार-(सं. अव्य.) आहार के अनुसार।

यथेच्छ-(सं. अव्य.) इच्छानुसार, मनमाना।

यथेच्छक-(सं. वि.) मनमाना काम करनेवाला।

यथेच्छा-(सं. अव्य.) इच्छानुसार, मनमाना, जो मन में आवे वैसे।

यथेच्छाचार-(सं. पुं.) उचित-अनुचित का ध्यान न करके इच्छानुसार काम करना।

यथेच्छाचारी-(सं. वि.) मनमांसी।

यथेप्सित-(सं. वि.) जो इच्छा ही वैसा।

यथेष्ट-(सं. वि.) जितना चाहिये उतना; -कारी-(वि.) इच्छानुसार करनेवाला।

यथोक्त-(सं. वि.) जैसा कहा गया हो;

-कारी-(वि.) आज्ञाकारी; -त्रयी-(वि.) उचित बोलनेवाला।

यथोचित-(सं. वि.) यथायोग्य, जैसा चाहिये वैसा, ठीक।

यथोत्तर-(सं. अव्य.) उत्तर के अनुसार।

यथोक्ताह-(सं. अव्य.) सामर्थ्य के अनुसार।

यथोदित-(सं. अव्य.) कहने के अनुसार।

यथोद्विष्ट-(सं. वि.) जैसा कहा गया हो।

यथोद्देश-(सं. अव्य.) अनिप्राय के अनुसार।

यथोपदिष्ट-(सं. वि.) जैसा उद्देश दिया गया हो।

यथोपदेश-(सं. अव्य.) उपदेश के अनुसार।

यथोपपन्न-(सं. अव्य.) जिस प्रकार प्राप्त हुआ हो।

यथोपपाद-(सं. अव्य.) यथार्थमन्त्र।

यथोपयोग-(सं. अव्य.) उपयोग या प्रयोग के अनुसार।

यथोपाधि-(सं. अव्य.) उपाधि के अनुसार।

यदपि-(हि. अव्य.) देखें 'यदपि'।

यदर्थ-(सं. अव्य.) जिस कारण से।

यदा-(सं. अव्य.) जिस समय, जब, ज्यों;

-कदा-(अव्य.) कदा-कदा, कभी-कभी।

यदि-(सं. अव्य.) यद्यपि, (अपवाद, अशक्य आदि सूचित करने में सिधे उपसर्ग के आरंभ में प्रयोग होता है।)

यदि च, यदि चेत्-(सं. अव्य.) यद्यपि।

यदिच्छा-(सं. स्त्री.) उमीद इत्यादि।

यदु-(सं. पुं.) यथापि के उपसर्ग रूप का नाम जो उपसर्गों के समूह में उपसर्ग से,

(उपसर्ग अथवा उपसर्ग के नाम का नाम)।

-मन्त्र-(सं.) श्री मन्त्र; -नाम-(सं.) नाम

यदुःख के समाने यदुःख; -यदि-

(पुं.) श्रीकृष्ण; -भूप (पुं.), राई- (हिं. पुं.) श्रीकृष्ण; -राज- (पुं.) यदुकुल के राजा श्रीकृष्ण; -वंश- (पुं.) राजा यदु का कुल, यादव, ग्वाल, आमीर, गोप; -मणि- (पुं.) श्रीकृष्ण; -वंशी- (वि.) यदुकुल में उत्पन्न, यादव, अहीर; -वर, -वीर- (पुं.) श्रीकृष्ण ।
 यद्यपि- (सं. अव्य.) यदि ।
 यदृच्छया- (सं. अव्य.) अकस्मात्, अचानक, दैवयोग से, बिना नियम या कारण से ।
 यदृच्छा- (सं. स्त्री.) केवल इच्छा के अनुसार व्यवहार, आकस्मिक संयोग ।
 यद्भवविषय- (सं. पुं.) अदृष्टवादी ।
 यद्वातद्वा- (सं. अव्य.) कभी-कभी ।
 यन्निमित्त- (सं. अव्य.) जिस कारण से ।
 यम- (सं. पुं.) दक्षिण दिशा के दिक्पाल, मृत्यु के देवता, यमराज, संयम, मन तथा इन्द्रियों को वश में करना, विष्णु, शनि, कौआ, वायु, बो की संख्या, यमज, जोड़ा ।
 यमक- (सं. पुं.) एक शब्दालंकार जिसमें किसी कविता में एक ही शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों में कई बार प्रयोग किया जाता है ।
 यमकात, यमकातर- (हिं. पुं.) यम का छुरा, एक प्रकार की तलवार ।
 यमकिकर- (सं. पुं.) यमदूत ।
 यमकीट- (सं. पुं.) केंचुवा ।
 यमकील- (सं. पुं.) विष्णु ।
 यमक्षय- (सं. पुं.) मृत्यु ।
 यमघंट- (सं. पुं.) फलित ज्योतिष के अनुसार एक अशुभ योग जिसमें शुभ कार्य करना मना है, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, दीपावली के बाद का दिन ।
 यमचक्र- (सं. पुं.) यम का शस्त्र ।
 यमज- (सं. वि.) एक गर्भ से एक साथ उत्पन्न होनेवाली दो सन्तान, जुड़वाँ, अश्विनीकुमार ।
 यमजातना- (हिं. स्त्री.) देखें 'यम-यातना' ।
 यमजित्- (सं. पुं.) मृत्युंजय ।
 यमदंड- (सं. पुं.) यमराज का डंडा, काल-दण्ड ।
 यमदंष्ट्रा- (सं. स्त्री.) वैद्यक के अनुसार आश्विन, कार्तिक और अगहन के लगभग का कुछ विशिष्ट काल जिसमें रोग तथा मृत्यु का अधिक भय होता है ।
 यमदग्नि- (सं. पुं.) परशुराम के पिता ।
 यमद्वितीया- (हिं. स्त्री.) देखें 'यम-द्वितीया' ।
 यमदूत- (सं. पुं.) यम के दूत, कौआ, नां समाधियों में से एक ।
 यमदूतिका- (सं. स्त्री.) इमली ।
 यमदेवता- (स्त्री.) भरणी नक्षत्र ।

यमद्रुम- (सं. पुं.) सेमर का पेड़ ।
 यमद्वितीया- (सं. स्त्री.) कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भाईदूज ।
 यमन- (सं. पुं.) रोकना, बंद करना, बाँधना, ठहराना; (पुं.) यम ।
 यमनगर- (सं. पुं.) यमपुरी ।
 यमनाह- (हिं. पुं.) धर्मराज ।
 यमनिका- (सं. स्त्री.) यवनिका, नाटक का परदा ।
 यमनी- (अ. स्त्री.) एक प्रकार का बहु-मूल्य पत्थर ।
 यमपुर- (सं. स्त्री.) यमलोक ।
 यमपुरी- (सं. स्त्री.) यमपुर, यमलोक ।
 यमभगिनी- (सं. स्त्री.) यमुना नदी ।
 यममार्ग- (सं. पुं.) मृत्युपथ ।
 यमयातना- (सं. स्त्री.) यम के दूतों द्वारा दी हुई पीड़ा, मृत्यु-समय का कष्ट ।
 यमरथ- (सं. पुं.) यम का वाहन, भैंसा ।
 यमराज- (सं. पुं.) यमों के राजा धर्मराज जो मृत्यु के बाद प्राणी के कर्मों का विचार करते हैं ।
 यमराष्ट्र- (सं. पुं.) यमलोक ।
 यमल- (सं. पुं.) युग्म, जोड़ा, यमज; -पत्रक, -च्छद- (पुं.) कचनार का वृक्ष ।
 यमला- (सं. स्त्री.) एक प्रकार का हिचकी का रोग ।
 यमलार्जुत- (सं. पुं.) नलकूबर और मणि-श्रीव नाम के कुबेर के दो पुत्र जो नारद के शाप से अर्जुन वृक्ष हो गये थे, (श्रीकृष्ण ने इनका उद्धार किया था) ।
 यमली- (सं. स्त्री.) स्त्रियों का बाघरा और चोली ।
 यमलोक- (सं. पुं.) वह लोक जहाँ मृत्यु के बाद आत्माएँ जाती हैं, यमपुरी ।
 यमवाहन- (सं. पुं.) यम का वाहन, भैंसा ।
 यमवृक्ष- (सं. पुं.) सेमल का पेड़ ।
 यमव्रत- (सं. पुं.) राजा का निष्पक्ष या न्यायपूर्ण शासन ।
 यमसदन- (सं. पुं.) यमलोक ।
 यमस्तोम- (सं. पुं.) एक दिन में होने-वाला एक यज्ञ ।
 यमस्वप्ना- (सं. स्त्री.) यमुना, दुर्गा ।
 यमहंता- (सं. पुं.) काल का नाश करने-वाला ।
 यमांतक- (सं. पुं.) शिव ।
 यमानिका, यमानी- (सं. स्त्री.) अजवायन ।
 यमानुग- (सं. पुं.) यम का अनुचर ।
 यमानुजा- (सं. स्त्री.) यमुना नदी ।
 यमारि- (सं. पुं.) विष्णु ।
 यमालय- (सं. पुं.) यमपुर ।

यमी- (सं. स्त्री.) यमुना; (पुं.) संयमी ।
 यमुना- (सं. स्त्री.) भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में बहनेवाली एक नदी, यम की वहिन, कालिन्दी, दुर्गा ।
 यमेश- (सं. पुं.) भरणी नक्षत्र ।
 यमेश्वर- (सं. पुं.) शिव ।
 ययाति- (सं. पुं.) नहुष राजा के एक पुत्र का नाम जिनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानि के साथ हुआ था ।
 ययातीश्वर- (सं. पुं.) शिव ।
 ययी- (सं. पुं.) शिव, महादेव, मार्ग, घोड़ा ।
 यव- (सं. पुं.) जव या जौ नाम का अन्न, चार धान या छः सरसों की तैल या मान, इन्द्रजव, सामुद्रिक के अनुसार अँगुली में जव की आकृति की रेखा जो शुभ मानी जाती है ।
 यवकंठक- (सं. पुं.) खेतपापड़ा ।
 यवक्षार- (सं. पुं.) जौ के पौधों को जलाकर निकाला हुआ क्षार, जवाखार ।
 यवतिक्ता- (सं. स्त्री.) शंखिनी नाम की लता, चौराई या मरसे का साग ।
 यवद्वीप- (सं. पुं.) जावा नामक टापू का प्राचीन नाम ।
 यवन- (सं. पुं.) यूनान देश का निवासी, मुसलमान, कालयवन नामक असुर, तीव्र घोड़ा; (वि.) वेगवान; -प्रिय- (पुं.) मिरचा ।
 यवनानी- (सं. स्त्री.) यूनान की लिपि, यूनान की भाषा; (वि.) यवन-संबंधी ।
 यवनाल- (सं. पुं.) जुआर का पौधा, जौ का डोंठ ।
 यवनिका- (सं. स्त्री.) नाटक का परदा ।
 यवनी- (सं. स्त्री.) यवन जाति की स्त्री ।
 यवनेष्ट- (सं. पुं.) लहसुन, प्याज, शलगम ।
 यवपल्ल- (सं. पुं.) जौ का सूखा डंठल ।
 यवपिष्ट- (सं. पुं.) जव का आटा ।
 यवफल- (सं. पुं.) ब्राँस, जटामासी, प्याज, इन्द्रजव, पाकड़ का पेड़ ।
 यवमती- (सं. स्त्री.) एक वर्णवृत्त का नाम ।
 यवमद्य- (सं. पुं.) जव की मदिरा ।
 यवमध्य- (सं. पुं.) एक प्रकार का चांद्रायण व्रत ।
 यवमंथ- (सं. पुं.) जव का सत्तू ।
 यवलास- (सं. पुं.) यवक्षार, जवाखार ।
 यवशक्तु- (सं. पुं.) जव का सत्तू ।
 यवशुक- (सं. पुं.) यवक्षार, जवाखार ।
 यवासुर- (सं. पुं.) जौ की मदिरा ।
 यवसौवीर- (सं. पुं.) जौ का माँड़ ।
 यवागू- (सं. पुं.) जौ या चावल का माँड़ जो सड़ाकर खट्टा कर दिया गया हो ।

यवानी—(सं. स्त्री.) अजवायन ।
यवास—(सं. पुं.) जवासा नामक कौटिला पौधा ।
यविष्ठ—(सं. वि.) छोटा, जवान; (पुं.) छोटा भाई, अग्नि ।
यवीयुध—(सं. वि.) रणप्रिय ।
यवोदर—(सं. पुं.) जौ का मध्य भाग ।
यवोद्भव—(सं. पुं.) जवाखार ।
यश—(सं. पुं.) प्रशंसा, ख्याति, कीर्ति, सुनाम, बड़ाई; (मुहा.) —गाना—प्रशंसा करना, कृतज्ञ होना ।
यशद—(सं. पुं.) एक घातु विशेष, जस्ता ।
यशस्कर—(सं. वि.) कीर्तिकारक ।
यशस्करी—(सं. स्त्री.) यश बढ़ानेवाली विद्या ।
यशस्काम—(सं. वि.) यश की कामना करनेवाला ।
यशस्कृत, यशस्य—(सं. वि.) यश चाहनेवाला ।
यशस्वतु—(सं. वि.) यशस्वी ।
यशस्विनी—(सं. वि., स्त्री.) कीर्तिमती, सत्यव्रत की पत्नी ।
यशस्वी—(हिं. वि.) कीर्तिमान्, जिसका बहुत यश हो ।
यशी—(सं. वि.) यशस्वी, कीर्तिमान् ।
यशील—(हिं. वि.) देखें 'यशी' ।
यशुमति—(हिं. स्त्री.) देखें 'यशोदा' ।
यशोघ्न—(सं. वि.) यश का नाश करनेवाला ।
यशोद—(सं. वि.) यश देनेवाला; (पुं.) पारा ।
यशोदा—(सं. स्त्री.) नन्द की स्त्री जिन्होंने श्रीकृष्ण को पाला था, दिलीप की माता का नाम, एक वर्णवृत्त का नाम ।
यशोधन—(सं. वि.) यश ही जिसका एकमात्र धन हो ।
यशोधर—(सं. वि.) यशस्वी, कीर्तिमान् ।
यशोधरा—(सं. स्त्री.) बुद्धदेव की पत्नी और राहुल की माता ।
यशोधा—(सं. वि.) कीर्तिमान्, यशस्वी ।
यशोभाग्य—(सं. वि.) यशभागी, कीर्तिमान् ।
यशोभूत—(सं. वि.) यशस्वी, कीर्तिमान् ।
यशोमती—(सं. स्त्री.) यशस्विनी, यशोदा ।
यशोवर—(सं. पुं.) रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम ।
यष्टव्य—(सं. वि.) यज्ञ के योग्य ।
यष्टि—(सं. स्त्री.) ध्वजदण्ड, लाठी, छड़ी, शाखा, टहनी, मोतियों का हार, मुलेठी, बाहु ।
यष्टिक—(सं. पुं.) तीतर पक्षी, दण्ड, डंडा, मजीठ ।
यष्टिका—(सं. स्त्री.) गले में पहनने का हार, छोटी छड़ी या लाठी, बावली ।

यष्टिमधु—(सं. पुं.) मुलेठी ।
यष्टियंत्र—(सं. पुं.) एक प्रकार की धूपघड़ी ।
यष्टीकर्ण—(सं. पुं.) कान में पहनने का एक प्रकार का आभूषण ।
यह—(हिं. सर्व.) निकट की वस्तु का निर्देश करनेवाला एक सर्वनाम जो वक्ता और श्रोता के सिवाय जीवों या पदार्थों के लिये प्रयोग किया जाता है ।
यहाँ—(हिं. अव्य.) इस स्थान में या पर ।
यहि—(हिं. वि., सर्व.) 'यह' का वह रूप जो प्राचीन हिन्दी में कोई विभक्ति लगने के पूर्व प्रयुक्त होता था, ब्रजभाषा में 'ए' का विभक्ति-युक्त रूप, इसको ।
यही—(हिं. अव्य.) निश्चित रूप से यह, यह ही ।
यहूद—(इ. पुं.) वह देश जहाँ महात्मा ईसा उत्पन्न हुए थे ।
यहूदी—(हिं. पुं.) पश्चिम एशियावासी एक प्राचीन जाति; (स्त्री.) इस जाति की भाषा यहाँ—(हिं. अव्य.) यहाँ ।
याँचना—(हिं. स्त्री.) देखें 'याचना' ।
यांत्रिक—(हिं. वि.) यन्त्र-संबंधी ।
या—(हिं. सर्व.) ब्रजभाषा में विभक्ति लगने के पहले 'यह' का रूप ।
याक—(हिं. पुं.) हिमालय पर्वत का एक जंगली बिल जिसकी पूँछ का चेंबर बनता है; (हिं. वि.) एक ।
याग—(सं. पुं.) यज्ञ; —कर्म—(पुं.) यज्ञ का कार्य; —काल—(पुं.) यज्ञ करने का उपयुक्त समय; —बंडप—(पुं.) यज्ञशाला; —संतान—(पुं.) इन्द्र के पुत्र जयन्त का नाम; —सिद्ध—(वि.) यज्ञ द्वारा सिद्ध या प्राप्त; —सूत्र—(पुं.) यज्ञसूत्र, यज्ञोपवीत ।
याचक—(सं. वि.) माँगनेवाला, भिक्षुक, भिखमंगा ।
याचन—(सं. पुं.) याचना, प्रार्थना ।
याचनक—(सं. वि.) विवाह के लिये कन्या से प्रणय-प्रार्थना करनेवाला ।
याचना—(सं. स्त्री.) प्रार्थना, माँगना; (हिं. क्रि. स.) माँगना ।
याचनीय—(सं. वि.) माँगने योग्य ।
याचमान—(सं. वि.) माँगनेवाला ।
याचित—(सं. वि.) माँगा हुआ ।
याचितक—(सं. पुं.) माँगी हुई वस्तु ।
याचितव्य—(सं. वि.) माँगने योग्य ।
याचिष्णु—(सं. वि.) माँगनेवाला ।
याची—(सं. पुं.) भिक्षुक, भिखमंगा ।
याच्य—(सं. वि.) याचना करने योग्य ।
याजक—(सं. पुं.) याज्ञिक, यज्ञ करनेवाला,

मस्त हाथी ।
याजन—(सं. पुं.) यज्ञ की क्रिया ।
याजनीय—(सं. वि.) यज्ञ करने योग्य ।
याजमान—(सं. पुं.) यज्ञ में यजमान के कर्तव्य या काम ।
याजयिता—(सं. पुं.) यज्ञ करानेवाला पुरोहित ।
याजिका—(सं. स्त्री.) पूजा के समय दिया जानेवाला उपहार ।
याजी—(हिं. वि.) यज्ञ करनेवाला ।
याजुष—(सं. वि.) यजुर्वेद-सम्बन्धी ।
याज्ञ—(सं. वि.) यज्ञ-सम्बन्धी ।
याज्ञवल्क्य—(सं. पुं.) धर्मशास्त्र के प्रणेता एक प्रसिद्ध ऋषि, (यह वैशम्पायन के शिष्य थे), वाजसनेयी संहिता के आचार्य, राजा जनक के दरवार के एक ऋषि ।
याज्ञसेनी—(सं. स्त्री.) द्रौपदी ।
याज्ञिक—(सं. पुं.) यज्ञ करने या करानेवाला ।
याज्ञिय—(सं. वि.) यज्ञ संबंधी ।
याज्य—(सं. वि.) यज्ञ करने योग्य ।
याज्या—(सं. स्त्री.) गंगा ।
यात—(सं. वि.) लब्ध, पाया हुआ, ज्ञात, जाना हुआ ।
यातन—(सं. पुं.) पारितोषिक ।
यातना—(सं. स्त्री.) बहुत अधिक कष्ट या वेदना, वह पीड़ा जो यमलोक में भोगनी पड़ती है ।
यातयाम—(सं. वि.) जीर्ण, पुराना, जिसका उपयोग किया जा चुका हो, परित्यक्त, उच्छिष्ट ।
यातव्य—(सं. वि.) आक्रमण करने योग्य ।
याता—(सं. स्त्री.) पति के भाई की स्त्री, जेठानी या देवरानी ।
यातायात—(सं. पुं.) आना-जाना ।
यातिक—(सं. पुं.) पथिक, यात्री ।
यातु—(सं. पुं.) मार्ग पर चलनेवाला; (पुं.) राक्षस ।
यातुधान—(सं. पुं.) राक्षस ।
यातुमत्—(सं. वि.) हिसायुक्त ।
यातुविद्—(सं. पुं.) ऐन्द्रजालिक, जादूगर ।
यातुहन्—(सं. वि.) इन्द्रजाल को नष्ट करनेवाला ।
यातोपयात—(सं. पुं.) आना-जाना ।
यात्रा—(सं. स्त्री.) एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करने की क्रिया, प्रस्थान, प्रयाण, तीर्थटन, देवस्थान के दर्शन को जाना ।
यात्राकार—(सं. पुं.) यात्रा करनेवाला ।
यात्रावाल—(हिं. पुं.) तीर्थ-यात्रियों को दर्शन आदि करानेवाला पंडा ।
यात्रिक—(सं. वि.) यात्रा-संबंधी, रीत्यनु-

सार, जीवन-धारण करने के उपयुक्त;
(पुं.) यात्री, पथिक, यात्रा की सामग्री।
यात्री—(सं. वि., पुं.) यात्रा करनेवाला,
तीर्थार्थ के लिये जानेवाला।
याथाकामी—(सं. वि.) इच्छानुसार काम
करनेवाला।
याथाकाम्य—(सं. पुं.) इच्छानुसार होने का
भाव।
याथातथ्य—(सं. पुं.) यथार्थता।
याथात्म्य—(सं. पुं.) आत्मानुरूपता।
याथाथ्य—(सं. पुं.) यथार्थता।
याद—(फा. स्त्री.) स्मृति, स्मरण।
यादव—(सं. पुं.) यदु के वंशज, श्रीकृष्ण;
(वि.) यदु-संबंधी।
यादवक—(सं. पुं.) यदु के वंशज।
यादवी—(सं. स्त्री.) यदुकुल की स्त्री, दुर्गा।
यादवेंद्र—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण।
यादुविद्या—(सं. स्त्री.) भौतिक विद्या।
यादुर—(सं. वि.) वीर्यवान्।
यादृश—(सं. वि.) जिस प्रकार का, जैसा।
यादृशी—(सं. वि. स्त्री.) जिस प्रकार की।
यान—(सं. पुं.) (घोड़ा, हाथी, रथ आदि)
सवारी, विमान, वाहन, राजाओं के
सन्धि आदि छः गुणों में से एक, शत्रु पर
आक्रमण करना, गति; -पात्र—(पुं.)
जहाज; -भंग—(पुं.) जहाज का नष्ट
होना; -बाह—(पुं.) रथ हँकनेवाला;
-शाला—(स्त्री.) रथ, गाड़ी आदि रखने
का घर।
यापक—(सं. वि.) यापन करनेवाला।
यापन—(सं. पुं.) चलाना, समय बिताना,
छोड़ना, मिटाना, निवटाना, बिताना।
यापना—(सं. स्त्री.) कालक्षेप, व्यवहार।
यापनीय—(सं. वि.) यापन करने योग्य।
याप्य—(सं. वि.) निन्दनीय, रक्षणीय,
छिपाने योग्य; -यान—(पुं.) पालकी।
याव—(फा. पुं.) छोटा घोड़ा, टट्टू।
याभ—(सं. पुं.) स्त्री-प्रसंग, मैथुन।
याम—(सं. पुं.) तीन घंटे का समय, प्रहर,
काल, समय, गमन, जाना, एक प्रकार के
देवगण; (हिं. स्त्री.) रात्रि, रात; -क—
(पुं.) पुनर्वसु नक्षत्र।
यामकिन—(सं. स्त्री.) पुत्रवधू, वहिन।
यामघोष—(सं. स्त्री.) कुक्कुट, मुर्गा।
यामघोषा—(सं. स्त्री.) समय की सूचना
देने के लिये बजाई जानेवाली घंटी।
यामतूर्य—(सं. पुं.) समय बतलाने के लिये
बजनेवाली तुरही।
यामदुंबि—(सं. पुं.) नगाड़ा।
यामन—(सं. वि.) गति, गमन।

यामनाली—(सं. स्त्री.) समय बतलाने-
वाली घड़ी।
यामनेमि—(सं. पुं.) इन्द्र।
यामल—(सं. पुं.) यमज सन्तान, जुड़वाँ
लड़के, एक तन्त्र ग्रन्थ।
यामवती—(सं. स्त्री.) निशा, रात्रि।
यामश्रुत—(सं. वि.) जो शीघ्रता से सुना
गया हो।
यामार्ध—(सं. पुं.) आधा पहर।
यामिक—(सं. पुं.) पहरा देनेवाला, चौकीदार।
यामिका, यामिनी—(सं. स्त्री.) रात।
यामिनीचर—(सं. पुं.) उल्लू पक्षी।
यामिनीपति—(सं. पुं.) चन्द्रमा।
याम्य—(सं. पुं.) शिव, विष्णु; (वि.)
यम-संबंधी, दक्षिण का; -द्रुम—(पुं.)
सेमल का वृक्ष।
याम्या—(सं. स्त्री.) भरणी नक्षत्र, दक्षिण
दिशा।
याम्योत्तर-दिगंश—(सं. पुं.) भूगोल में
लम्बांश या दिगंश।
याम्योत्तर-रेखा—(सं. स्त्री.) वह कल्पित
रेखा जो सुमेरु और मेरु से होती हुई
पृथ्वी के चारों ओर जाती है।
यायावर—(सं. पुं.) अश्वमेध का घोड़ा,
खानावदोश।
यायी—(सं. वि.) गमनशील, जानेवाला;
(पुं.) अभियोग चलानेवाला।
यार—(फा. पुं.) मित्र, प्रेमी।
याव—(सं. वि.) जौ का बना हुआ।
यावक—(सं. पुं.) बोरों घान, कुलथी,
उड़द, जव।
यावच्छक्य—(सं. अव्य.) यथाशक्ति।
यावच्छस्त्र—(सं. अव्य.) जहाँ तक शस्त्र
जा सके।
यावच्छेष—(सं. अव्य.) जितना बच गया हो।
यावच्छ्लेष्ट—(सं. वि.) बहुत बढ़िया।
यावज्जन्म—(सं. अव्य.) जन्म भर।
यावत्—(सं. अव्य.) जब तक, अवधि या
मर्यादा तक; -काम—(अव्य.) इच्छा
के अनुसार; -प्रमाण—(अव्य.) जहाँ
तक; -भाषित—(वि.) जितना कहा गया
हो; -व्याप्ति—(सं. अव्य.) अन्त तक।
यावदंत—(सं. अव्य.) शेष तक।
यावदर्थ—(सं. वि.) आवश्यकता के अनुसार।
यावदायुस—(सं. अव्य.) आजीवन।
यावदोप्सित—(सं. अव्य.) जितनी इच्छा हो।
यावदुक्त, यावद्भाषित—(सं. अव्य.) कहे
के अनुसार।
यावदुत्तम—(सं. अव्य.) शेष सीमा तक।
यावद्गम—(सं. अव्य.) जितना शीघ्र

जाना संभव हो।

यावन—(सं. वि.) यवन-संबंधी।
यावनाल—(सं. पुं.) जुआर।
यावनाली—(सं. स्त्री.) जुआर की शक्कर।
यावनी—(सं. स्त्री.) ईख; (वि.) यवन-
संबंधी।
यावन्मात्र—(सं. अव्य.) थोड़ा-थोड़ा।
यावास—(सं. वि.) जवासे की मदिरा।
याविक—(सं. पुं.) मक्का नामक अन्न।
याव्य—(सं. पुं.) जवाखार।
याव्ठीक—(सं. पुं.) लाठी से लड़नेवाला योद्धा।
यासा—(सं. स्त्री.) कोकिल, कोयल।
यासु—(हिं. सर्व.) देखें 'जासु'।
यास्क—(सं. पुं.) वेद के निरुक्त ग्रन्थ के
रचयिता ऋषि विशेष।
याहि—(हिं. सर्व.) इसको, इसे।
यियक्षु—(सं. वि.) यज्ञ करने का इच्छुक।
यियासु—(सं. वि.) जाने की इच्छा करनेवाला।
युक्त—(सं. वि.) न्याय्य, उचित, ठीक,
सम्मिलित, मिला हुआ, जुटा हुआ,
अवशिष्ट; (पुं.) योग का अभ्यास
करनेवाला, योगी; -कारी—(वि.) ठीक
काम करनेवाला; -दंड—(पुं.) ठीक
दण्ड; -रूप—(वि.) ठीक।
युक्ता—(सं. स्त्री.) एक वृत्त का नाम।
युक्ति—(सं. स्त्री.) न्याय, नीति, उपाय,
ढंग, चातुरी, तर्क, अनुमान, रीति, प्रथा,
कारण, हेतु, नाटक का एक अलंकार
जिसमें कोई मर्म की बात छिपाई जाती
है, केशव के अनुसार स्वभावोक्ति।
युक्तिकर—(सं. पुं., वि.) (वह) जो तर्क
के अनुसार ठीक हो।
युक्तिज्ञ—(सं. अव्य.) ठीक तर्क करनेवाला।
युक्तियुक्त—(सं. वि.) उपयुक्त तर्क के
अनुसार।
युक्तिशास्त्र—(सं. पुं.) प्रमाणशास्त्र।
युग—(सं. पुं.) युग, जोड़ा, जुआ, ऋद्धि
और सिद्धि नामक दो श्रौपधियाँ, समय,
काल, चार हाथ का मान, पासे के खेल
की गोटियाँ, पासे के खेल में दो गोटियों
का एक घर में बैठना, पुरुष, पीढ़ी, पुराण
के अनुसार काल का वह दीर्घ परिमाण
जो संख्या में चार माना गया है, यथा-
सत्य, द्वापर, त्रेता और कलि।
युगकीलक—(सं. पुं.) जुए के छेद में
डालने का डंडा।
युगक्षय—(सं. पुं.) युग का नाश।
युगति—(हिं. स्त्री.) देखें 'युक्ति'।
युगप—(सं. पुं.) गन्धर्व।
युगपत्—(सं. अव्य.) एक ही समय में।

युगवाह—(सं. वि.) जिसके हाथ बहुत लम्बे हों।
 युगम—(हिं. पुं.) देखें 'युग्म'।
 युग-युग—(सं. अव्य.) अनन्त काल तक।
 युगल—(सं. पुं.) युग्म, जोड़ा।
 युगांत—(सं. पुं.) युग का अन्तिम समय, प्रलय
 युगांतक—(सं. पुं.) प्रलयकाल।
 युगांतर—(सं. पुं.) दूसरा युग।
 युगादि—(सं. पुं.) सृष्टि का आरम्भ।
 युगाद्या—(सं. स्त्री.) वह तिथि जिसमें कोई युग आरम्भ हुआ था, यथा—वैशाख शुक्ला तृतीया को सतयुग, कार्तिक शुक्ला नवमी को त्रेता, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को द्वापर तथा पौष मास की पूर्णिमा को कलियुग का आरंभ माना जाता है।
 युगाध्यक्ष—(सं. पुं.) प्रजापति, शिव।
 युग्म—(सं. पुं.) युगल, द्वन्द्व, जोड़ा, युग, मिथुन राशि;—कटक—(स्त्री.) बैर का वृक्ष;—क—(पुं.) युग्म, जोड़ा;—ज—(पुं.) जुड़वाँ लड़के;—धर्म—(पुं.)—मिलनशीलता, मैथुन;—पत्र—(पुं.) भोजपत्र का वृक्ष;—पत्रिका—(स्त्री.) शीशम का पेड़;—विपुला—(स्त्री.) एक प्रकार का छन्द।
 युज्य—(सं. वि.) संयुक्त, मिला हुआ, मिलाने योग्य।
 युत—(सं. पुं.) चार हाथ की नाप; (वि.) युक्त, सहित, मिलित, मिला हुआ।
 युतक—(सं. पुं.) संशय, सन्देह, अंचल, मंत्रीकरण।
 युति—(सं. स्त्री.) योग, मिलन।
 युत्कार—(सं. वि.) लड़ाई करनेवाला।
 युद्ध—(सं. पुं.) रण, समर, संग्राम, लड़ाई;—क—(पुं.) युद्ध, संग्राम;—कारी—(वि.) समर करनेवाला;—कौत्ति—(स्त्री.) शंकराचार्य के एक शिष्य का नाम;—प्राप्त—(पुं.) लड़ाई में पकड़ा हुआ बंदी;—भू—(स्त्री.) संग्राम या युद्ध की भूमि;—मय—(वि.) रण-संबंधी;—मेदिनी—(स्त्री.) रणभूमि;—रंग—(पुं.) लड़ाई का मैदान;—विद्या—(स्त्री.) लड़ाई की विद्या;—वीर—(पुं.) रण करने में निपुण;—शाली—(वि.) सहसी, वीर;—सार—(पुं.) घोड़ा;—स्थल—(पुं.) रणभूमि।
 युद्धाध्वन—(सं. पुं.) युद्ध का मार्ग।
 युद्धावसान—(सं. पुं.) युद्ध का शेष।
 युद्धोन्मत्त—(सं. वि.) युद्ध करने के लिये उतावला।
 युद्धोपकरण—(सं. पुं.) युद्ध की सामग्री।

युधाजित्—(सं. पुं.) केकय राजा का पुत्र जो भरत का मामा था।
 युधिष्ठिर—(सं. पुं.) पाँचों पाण्डवों में से सब से बड़े भाई का नाम।
 युध्म—(सं. पुं.) संग्राम, युद्ध।
 युयुक्षमान—(सं. वि.) ईश्वर में लीन होने का इच्छुक।
 युयुत्सा—(सं. स्त्री.) युद्ध करने की लालसा, विरोध, शत्रुता।
 युयुत्सु—(सं. वि.) लड़ने की इच्छा करनेवाला; (पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 युयुधान—(सं. पुं.) इन्द्र, क्षत्रिय, योद्धा।
 युवक—(सं. पुं.) सोलह वर्ष से पैंतीस वर्ष के वय का मनुष्य, जवान।
 युवगंड—(सं. पुं.) मुहाँसा।
 युवति, युवती—(सं. स्त्री.) प्राप्त-यौवना, जवान स्त्री।
 युवनाश्व—(सं. पुं.) सूर्यवंशी एक राजा जो प्रसेनजित् की पत्नी गौरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था।
 युवपलित—(सं. वि.) युवावस्था में जिसके बाल पक गये हों।
 युवराई—(हिं. स्त्री.) युवराज का पद।
 युवराज—(सं. पुं.) राजा का वह राज-कुमार जो राज्य का उत्तराधिकारी होता है;—त्व—(पुं.) युवराज का पद या धर्म।
 युवराजी—(हिं. स्त्री.) युवराज का पद।
 युवा—(हिं. पुं, वि.) युवक, जवान।
 युवानपीड़िका—(सं. स्त्री.) मुहाँसा।
 यू—(हिं. अव्य.) यों, इस प्रकार से।
 यूक, यूका—(सं. पुं, स्त्री.) वालों में पड़नेवाला कौड़ा, जूँ, ढील।
 यूकांड—(सं. पुं.) चीलर, लीख।
 यूत—(सं. पुं.) मिश्रण, मिलावट।
 यूथ—(सं. पुं.) एक ही जाति के अनेक जीवों का समूह, झुण्ड, दल, सेना;—नाथ—(पुं.) सेनापति, सरदार;—पति—(पुं.) सेनानायक;—हत्त—(वि.) दल से अलग।
 यूथिका—(सं. स्त्री.) पाठा, जूही नामक पुष्प;—पत्र—(पुं.) तालीशपत्र।
 यून—(सं. पुं.) रस्सी, डोरी।
 यूनान—(हिं. पुं.) एशिया के सब से पास का यूरोप का प्रदेश जो प्राचीन काल में अपनी सभ्यता, शिल्पकला, साहित्य और दर्शन के लिये प्रसिद्ध था।
 यूनानी—(हिं. वि.) यूनान देश का; (स्त्री.) यूनान देश की भाषा, यूनान देश की चिकित्साप्रणाली, हकीमी; (पुं.) यूनान देश का निवासी।
 यूप—(सं. पुं.) यज्ञ में वह खम्भा जिसमें

बलि का पशु बाँधा जाता है;—क—(पुं.) पाकर का वृक्ष;—दार—(पुं.) गूलर की लकड़ी;—दु—(पुं.) खैर का वृक्ष;—ध्वज—(पुं.) यज्ञ;—वाह—(पुं.) यूप देनेवाला।
 यूपा—(हिं. पुं.) झूत, जुआ।
 यूरोपीय—(हिं. वि.) यूरोप-सम्बन्धी।
 यूष—(सं. पुं.) दाल आदि का जूस।
 यूह—(हिं. पुं.) यूथ, झुण्ड, समूह।
 यू—(हिं. सर्व.) 'यह' का बहुवचन रूप, यह सब।
 येई—(हिं. सर्व.) देखें 'यही'।
 येऊ—(हिं. सर्व.) यह भी।
 येतो—(हिं. वि.) देखें 'एतो'।
 येह—(हिं. अव्य.) यह भी।
 यों—(हिं. अव्य.) इस तरह, इस प्रकार से।
 योंही—(हिं. अव्य.) ऐसे ही, इसी प्रकार से, व्यर्थ ही, बिना काम के, बिना किसी विशेष प्रयोजन के, केवल मन की प्रवृत्ति से।
 योग—(सं. पुं.) संयोग, मेल, उपाय, युक्ति, प्रेम, संगति, ध्यान, गणित में दो या अधिक राशियों का जोड़, एक प्रकार का छन्द, तप और ध्यान, वैराग्य, मेल-मिलाप, सम्बन्ध, सद्भाव; साम, दाम, दण्ड, भेद—ये चार उपाय; धन प्राप्त करना और बढ़ाना, औपध, छल, धोखा, विश्वासघात, शुभ अवसर, दूत, चतुराई, परिणाम, वैलगाड़ी, नाम, मुक्ति या मोक्ष का उपाय, प्रयोग, नियम, चित्त की चंचलता को रोकना, षड्दर्शनों में से एक, फलित ज्योतिष के अनुसार वह विशिष्ट काल जो सूर्य और चन्द्रमा के कुछ विशिष्ट स्थानों में आने के कारण होता है; (ये संख्या में सत्ताईस हैं);—कन्या—(स्त्री.) यशोदा के गर्भ से उत्पन्न एक कन्या जिसको कंस ने मार डाला था;—क्षेम—(पुं.) जो वस्तु अपने पास न हो उसको प्राप्त करना और जो मिल चुकी हो उसकी रक्षा करना, जीवन-निर्वाह, कुशल-मंगल, लाभ, राष्ट्र का अच्छा प्रवन्ध;—चर—(पुं.) हनुमान;—ज—(वि.) योग से उत्पन्न;—फल—(पुं.) दो या अधिक अंकों का जोड़;—तत्त्व—(पुं.) एक उपनिषद् का नाम;—तल्प—(पुं.) योगनिद्रा;—तारा—(स्त्री.) एक दूसरे में मिले हुए तारे;—दर्शन—(पुं.) महर्षि पतञ्जलि का योगसूत्र;—दा-आसाम की एक नदी;—दान—(पुं.) योग-दीक्षा, सहयोग;—नाथ—(पुं.) निव, महा-देव;—निद्रा—(स्त्री.) विष्णु की युग

के अन्त की निद्रा, योगरूप निद्रा, निद्रा-रूपी दुर्गा; -निलय-(पुं.) शिव, महादेव; -पति-(पुं.) शिव, महादेव, विष्णु; -पथ-(पुं.) योगमार्ग; -पारंग-(पुं.) पूर्ण योगी; -पीठ-(पुं.) देवताओं का योगासन; -प्राप्त-(वि.) योग से पाया हुआ; -फल-(पुं.) दो या अधिक संख्याओं का जोड़; -ब्रल-(पुं.) योग की साधना से प्राप्त बल, तपोबल; -भावना-(स्त्री.) योग की चिन्ता, बीज-गणित के अनु-मार संख्या-प्रकरण का भेद; -भ्रष्ट-(वि.) जिसकी योग की साधना पूरी न हुई हो, योग-मार्ग से च्युत; -मय-(वि.) योगस्वरूप; (पुं.) विष्णु; -माता-(स्त्री.) दुर्गा; -माया-(स्त्री.) विष्णुमाया भगवती, वह कन्या जो यज्ञोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी जिसको कंसने मार डाला था; -मतिधर-(पुं.) शिव, महादेव; -यात्रा-(स्त्री.) यात्रा के लिये शुभ मुहूर्त; -युक्त-(वि.) योग में संलग्न; -योगी-(वि.) योग के आसन पर बैठा हुआ योगी; -रंग-(पुं.) नारंगी; -रत्न-(पुं.) जादू-गरी से तैयार किया हुआ रत्न; -रथ-(पुं.) योग की प्राप्ति का साधन; -रुद्धि-(स्त्री.) दो शब्दों के योग से बना हुआ वह शब्द जिसका विशेष अर्थ होता है, यथा-‘मंडप’ शब्द का अर्थ ‘मांड पीनेवाला’ नहीं होता, परन्तु वह ‘गृह’ का बोधक है; -बह-(वि.) मिलावट से तैयार किया हुआ; -ब्राह्मिष्ठ-(पुं.) देवापि ब्राह्मिष्ठ का बनाया हुआ एक ग्रन्थ जिसमें वेदान्त-तत्त्व का वर्णन है; -बाही-(स्त्री.) पारद, पारा, सज्जीखार; -विद्-(पुं.) महादेव, ब्राजीगर; -शक्ति-(स्त्री.) तपोबल; -शब्द-(पुं.) वह यौगिक शब्द जो योगरुद्धि न हो परन्तु घातु के अर्थ का बोधक हो; -शास्त्र-(पुं.) पतञ्जलि-द्वारा रचित वह शास्त्र जिसमें चित्तवृत्ति को रोकने के उपाय बतलाये गये हैं; -शिक्षा-(स्त्री.) एक उपनिषद् का नाम, योगाभ्यास; -सार-(पुं.) वह उपाय जिससे मनुष्य सदा के लिये रोग-मुक्त हो जाय; -सिद्ध-(पुं.) वह जिसने योग की सिद्धि प्राप्त कर ली हो; -मुत्र-(पुं.) महर्षि पतञ्जलि के बनाये गये योग-सम्बन्धी मूत्रों का संग्रह। योगांग-(सं. पुं.) पतञ्जलि के अनु-

सार योग के आठ अंग हैं; यथा-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योगांजन-(सं. पुं.) सिद्धाञ्जन, वह अंजन जिसके लगाने से पृथ्वी के भीतर की वस्तु दिखाई पड़ती है। योगांतर-(सं. पुं.) मित्र-मित्र वस्तुओं का संयोग। योगांतराय-(सं. पुं.) योग में विघ्न डालनेवाली बातें। योगाकर्षण-(सं. पुं.) वह आकर्षण-शक्ति जिसके कारण परमाणु आपस में मिले रहते हैं और अलग नहीं होते। योगागम-(सं. पुं.) योगशास्त्र। योगाचार-(सं. पुं.) योग का आचरण। योगाचार्य-(सं. पुं.) इन्द्रजाल का शिक्षक। योगात्मा-(सं. पुं.) योगी। योगानन्द-(सं. पुं.) वह जिसको योगावलंबन से आनन्द प्राप्त हो। योगानुशासन-(सं. पुं.) योगशास्त्र। योगाभ्यास-(सं. पुं.) योग का साधन। योगाभ्यासी-(सं. पुं.) योग की साधना करनेवाला। योगासन-(सं. पुं.) जिस आसन से बैठकर योगाभ्यास किया जाता है, योग के बत्तीस प्रकार के आसन। योगित-(सं. वि.) जो मन्त्र आदि की सहायता से वश में कर लिया गया हो। योगित्व-(सं. पुं.) योगी का भाव या धर्म। योगिनी-(सं. स्त्री.) योगाभ्यासिनी, रणविशासिनी, योगमाया, देवी, काली की एक सहचरी का नाम, आपाढ़, कृष्ण एकादशी, कालिका पुराण में चौसठ योगिनियों का नाम लिखा है; -चक्र-(पुं.) तान्त्रिकों का वह चक्र जिससे वे योगिनियों का साधन करते हैं। योगिया-(हि. पुं.) संपूर्ण जाति का एक राग। योगिराज-(सं. पुं.) बहुत बड़ा योगी। योगीन्द्र-(सं. पुं.) योगीश्वर, बहुत बड़ा योगी। योगी-(सं. पुं.) शिव, महादेव, आत्मज्ञानी। योगीनाथ-(सं. पुं.) शिव, महादेव। योगीश-(सं. पुं.) याज्ञवल्क्य ऋषि का एक नाम, योगीन्द्र। योगीश्वर-(सं. पुं.) देखें ‘योगीश’। योगीश्वरी-(सं. स्त्री.) दुर्गा। योगेंद्र-(सं. पुं.) योगियों में श्रेष्ठ। योगेश-(सं. पुं.) याज्ञवल्क्य मुनि। योगेश्वर-(सं. पुं.) शिव, श्रीकृष्ण, बहुत बड़ा योगी। योगेश्वरी-(सं. स्त्री.) दुर्गा, नागदीना।

योगेश्वर्य-(सं. पुं.) योग का ऐश्वर्य। योग्य-(सं. वि.) प्रवीण, चतुर, श्रेष्ठ, उपयुक्त, आदरणीय, उचित, सुन्दर, जोड़ने लायक, ठीक; -ता-(स्त्री.) सामर्थ्य, बड़ाई, अनुकूलता, गुण, बुद्धि-मानी, उपयुक्तता; -त्व-(पुं.) योग्यता, प्रवीणता। योग्या-(सं. स्त्री.) सुश्रुत के अनुसार चौरफाड़ का अभ्यास, युवती स्त्री। योजक-(सं. वि.) संयोजक, मिलानेवाला; (पुं.) भूडमरूमध्य। योजन-(सं. पुं.) एक में मिलाने की क्रिया या भाव, योग, परमात्मा, संयोग, मिलान, चार कोस की दूरी, लीलावती के अनुसार बत्तीस हजार हाथ की दूरी; -गंधा-(स्त्री.) व्यास की माता का नाम, सीता, कस्तूरी। योजवल्ली-(सं. स्त्री.) मजीठ। योजना-(सं. स्त्री.) किसी काम में लगाने की क्रिया या भाव, जोड़, मिलान, स्थिति, घटना, प्रयोग, व्यवस्था, रचना, आयोजन, नियुक्ति, व्यवहार। योजित-(सं. वि.) रचा हुआ, बनाया हुआ, नियमबद्ध, मिलाया हुआ। योज्य-(सं. वि.) योजना के योग्य; (पुं.) जोड़ी जानेवाली संख्याएँ। योत्र-(सं. पुं.) वह बंधन जो जुए को बलों की गरदन से जोड़ता है, जोत। योद्धा-(हिं. पुं.) युद्ध करनेवाला, सिपाही। योधन-(सं. पुं.) युद्ध की सामग्री। योधा-(हिं. पुं.) देख ‘योद्धा’। योध्य-(सं. वि.) युद्ध करने योग्य। योनि-(सं. स्त्री.) आकर, खान, जल, उत्पादक, कारण, प्राणियों का उत्पत्ति-स्थान, स्त्रियों की जननेन्द्रिय, भग, शरीर, देह, (पुराण के अनुसार चौरासी लाख योनियाँ हैं जिनके अण्डज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज-ये चार भेद हैं); -ज-(पुं.) जरायुज, जिसकी उत्पत्ति योनि से हो; -देवता-(स्त्री.) पूर्वा-फाल्गुनी नक्षत्र; -मुक्त-(वि.) मोक्ष-प्राप्त; -संकर-(पुं.) वर्णसंकर, दोगला। योवणा-(सं. स्त्री.) असती स्त्री। योवा-(सं. स्त्री.) नारी, स्त्री। योषित्प्रया-(सं. स्त्री.) हरिद्रा, हल्दी। योषिता-(सं. स्त्री.) नारी, स्त्री। यौं-(हिं. अव्य.) देखें ‘यों’। यौ-(हिं. सर्व.) यह। यौक्तिक-(सं. वि.) जो युक्ति के अनु-सार ठीक हो।

छेद जो प्रकाश और वायु आने के लिये बनाया जाता है, गढ़ की भीती में वह मोखा जिसमें से बाहर की ओर तोप या बंदूक चलाई जाती है।

रंदिना—(हि. क्रि. स.) लकड़ी की सतह को रंदि से छीलकर चिकना करना।

रंदि—(हि. पुं.) बर्दई का वह औजार जिससे वह लकड़ी के तल को छीलकर चिकनी करता है।

रंदि—(सं. पुं.) रंदिई बनानेवाला, बरबाद या नष्ट करनेवाला।

रंदिनी—(सं. पुं.) रंदिई बनाने की क्रिया।

रंदि—(सं. पुं.) दूषण, छिद्र; -पत्र—(पुं.) नरकट।

रंदिनी—(सं. स्त्री.) कदली, केला, एक अप्सरा का नाम, गौरी, वेश्या, उत्तर दिशा; (हि. पुं.) पेशराज का लोहे का छोटा डंडा।

रंदिनी—(हि. क्रि. अ.) गाय का शब्द करना।

रंदिनी—(सं. पुं.) इन्द्र।

रंदिनीफल—(सं. पुं.) कदलीफल, केला।

रंदिनी—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम।

रंदिनी—(सं. वि.) शब्द किया हुआ, बजाया हुआ।

रंदिनी—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसकी जाँघें केले के तने के समान हों।

रंदिनी—(हि. पुं.) किसी मनोरथ की सिद्धि के लिये लालसा, लालच।

रंदिनी—(सं. पुं.) वेग, गति, विष्णु, शिव।

रंदिनी—(हि. स्त्री.) देखें 'रंदिनी'।

रंदिनी—(हि. अव्य.) कुछ भी, थोड़ा भी, जरा भी।

रंदिनी—(हि. स्त्री.) रजनी, रात्रि, रात।

रंदिनी—(हि. स्त्री.) दही मथने की लकड़ी, मथानी, गेहूँ का मोटा या दरदरा आटा, सूजी, चूर्णमात्र; (वि. स्त्री.) युक्त, मिली हुई, डूबी हुई, अनुरक्त।

रंदिनी—(अ. पुं.) अमीर, धनवान, सरदार, शाहजादा।

रंदिनी—(अ. स्त्री.) रंदिनी होने का भाव या स्थिति।

रंदिनी—(हि. स्त्री.) स्वामी या मालिक होने का भाव, स्वामित्व।

रंदिनी—(हि. सर्व.) मध्यम पुरुष का आदरमूचक शब्द, आप।

रंदिनी—(हि. पुं.) पत्तों की बनी हुई पकौड़ी।

रंदिनी—(हि. पुं.) देखें 'रक्त', रघिर, लोह; (वि.) लाल रंग का; -कंद—(पुं.) देखें 'रक्तकंद'।

रक्तकंद—(हि. पुं.) कुंकुम, केसर, लाल चन्दन।

रक्तकंद—(हि. पुं.) क्षेत्रफल, जोत की कुल भूमि।

रक्तकंद—(हि. पुं.) घोड़ों का एक भेद।

रक्तकंदनी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पौधा।

रक्तकंद—(अ. स्त्री.) धन, धन-संपत्ति, गहना।

रक्तकंद—(अ. स्त्री.) लोहे का पावदान जिसपर घुड़सवार पैर रखते हैं।

रक्तकंदी—(हि. स्त्री.) तश्तरी।

रक्तकंद—(सं. पुं.) 'र' वर्ण।

रक्तकंदनी—(हि. क्रि. स.) देखें 'रक्तकंद'।

रक्तकंद—(सं. पुं.) कुंकुम, केसर, ताँवा, लाल कमल, सिन्दूर, सिगारिफ, शरीर के सात धातुओं में से एक जो लाल रंग का होता है और शरीर की नसों में चलता रहता है, रघिर; (वि.) लाल रंग का, अनुरक्त, रंजित, रंगा हुआ; -कंठ—(पुं.) कोकिल, कोयल, बंगन, भंटा; (वि.) मीठे स्वर का; -कंद—(पुं.) प्याज, रतालू, विद्रुम, मूंगा; -क—(पुं.) गुल-दुपहरिया का पौधा, लाल कपड़ा, लाल रंग का घोड़ा, केसर, कुंकुम; -कदली—(स्त्री.) चम्पा केला; -कमल—(पुं.) लाल रंग का कमल; -कांचन—(पुं.) कचनार का वृक्ष; -कांता—(स्त्री.) लाल गदहपूरना; -काश—(पुं.) एक रोग जिसमें श्वास-नली और फुफ्फुस से खून का स्राव निकलता है; -काष्ठ—(पुं.) लाल रंग की लकड़ी, पतंग की लकड़ी; -कुमुद—(पुं.) लाल कुई का फूल; -कुण्डक—(पुं.) लाल कटसरैया; -कुण्ड—(पुं.) विसर्प नामक रोग; -कुसुम—(पुं.) कचनार, मदार; -कुसुमा—(स्त्री.) अनार का वृक्ष; -कृमिजा—(स्त्री.) लाक्षा, लाह; -केशर—(पुं.) फरहद का पेड़; -केशी—(वि.) जिसके बाल लाल रंग के हों; -करव—(पुं.) लाल कुमुद; -कोप—(पुं.) रघिर का विकार; -क्षय—(पुं.) रघिर का स्राव; -गंधक—(पुं.) बोल नामक गन्धद्रव्य; -गंधा—(स्त्री.) अश्वगन्धा, असगंध; -गर्भा—(स्त्री.) मेहंदी का पेड़; -ग्रीव—(पुं.) राक्षस; -चंचु—(पुं.) शुक, तोता; -चंदन—(पुं.) लाल चन्दन; -चूर्ण—(पुं.) सिन्दूर, सेंदुर; -ज—(वि.) रक्त से उत्पन्न होनेवाला; -जिह्व—(पुं.) शेर,

लाल जीभवाला; -ता—(स्त्री.) लालिमा, ललाई; -तुंड—(पुं.) शुक, तोता; (वि.) लाल मुखवाला; -तुंडक—(पुं.) सीसा नामक धातु; -दंतिका—(स्त्री.) चण्डिका देवी; -दला—(स्त्री.) नलिका नाम का गन्धद्रव्य; -दूषण—(वि.) रघिर को दूषित करनेवाला; -दूश्—(पुं.) कपोत, कबूतर; -धरा—(स्त्री.) मांस के भीतर की झिल्ली जिसमें रघिर रहता है; -धातु—(पुं.) गैरिक, गेरू; -नयन—(पुं.) कबूतर, चकोर; -नासिक—(पुं.) उल्लू पक्षी; -नील—(पुं.) एक प्रकार का बड़ा विषैला विच्छु; -नेत्र—(पुं.) सारस, कबूतर; (वि.) लाल आँखवाला; -प—(पुं.) राक्षस; (वि.) रघिर पीनेवाला; -पक्ष—(पुं.) गरुड़; -पट—(वि.) लाल रंग के वस्त्र पहिनेवाला; -पत्र—(पुं.) पिंडालू; -पत्रिका—(स्त्री.) लाल पत्ता; -पद्म—(पुं.) लाल कमल; -पण; -पल्लव—(पुं.) लाल पत्ता; -पा—(स्त्री.) जोक, डाइन; (वि., स्त्री.) रघिर पीनेवाली; -पात—(पुं.) रक्तस्राव, रघिर का बहना, मारकाट; -पाता—(स्त्री.) जोक; -पाथी—(पुं.) मत्कुण, खटमल; (वि.) रघिर पीनेवाला; -पाषाण—(पुं.) गेरू, लाल पत्थर; -पिंडक—(पुं.) रतालू, अड़हुल का वृक्ष; -पिटिका—(स्त्री.) लाल फोड़ा; -पित्त—(पुं.) वह रोग जिसमें मुँह, नाक आदि से रघिर निकलता है; -पुष्प—(पुं.) करवीर, कनेर, अनार का वृक्ष, गुलदुपहरिया; लाल फूल; -पुष्पक—(पुं.) परास का पेड़; -पुष्पा—(पुं.) सेमर का वृक्ष, नागदीना; -पूय—(पुं.) रघिर और पीव; -पूरक—(पुं.) इमली; -पोस्त—(पुं.) लाल पोस्ता; -प्रदर—(पुं.) स्त्रियों की योनि से रघिर बहने का प्रदर रोग; -बीज—(पुं.) दाड़िम, अनार, शुम्भ और निशुम्भ का एक सेनापति जिसको दुर्गा ने मारा था; -बीजा—(पुं.) सिन्दूर-पुष्पी; -भव—(पुं.) मांस; -मंजरी—(स्त्री.) लाल कनेर; -मंडल—(पुं.) लाल कमल; -मस्तक—(पुं.) लाल सिरवाला सारस पक्षी; -मुख—(पुं.) साठी धान; -मूला—(पुं.) लजालू; -मेह—(पुं.) एक प्रकार का

प्रमेह जिसमें रुधिर के रंग का मूत्र निकलता है; -मोक्षण-(पुं.) दूषित रुधिर निकालना; -मोचन-(पुं.) शरीर से रुधिर निकालना; -वृष्टि-(स्त्री.) मजीठ; -रंगा-(स्त्री.) मेहेंदी; -ला-(स्त्री.) गुंजा, कौवाठों; -लोचन-(पुं.) कपोत, कबूतर; (वि.) लाल नेत्रवाला; -वटी-(स्त्री.) मसूरिका, शीतला रोग; -वर्ण-(पुं.) प्रवाल, मूंगा, वीरवहूटी; (वि.) लाल रंग का; -वर्तक-(पुं.) लाल बटेर; -वर्त्य-(पुं.) कुक्कुट, मुरगा; -वर्धन-(पुं.) वृद्ध; (वि.) रुधिर बढ़ानेवाला; -वल्ली-(स्त्री.) मजीठ; -वसन-(पुं.) संन्यासी, लाल कपड़ा; -वारिज-(पुं.) लाल कमल; -वासस-(वि.) लाल कपड़ा पहननेवाला; -वृष्टि-(स्त्री.) आकाश से लाल रंग के जल की वृष्टि; -शाली-(पुं.) एक प्रकार का लाल रंग का धान; -शालुक-(पुं.) कमल की जड़; -शासन-(पुं.) सिन्दूर; -शीर्षक-(पुं.) सारस पक्षी; -शेखर-(पुं.) पुन्नाग; -श्याम-(वि.) गहरे लाल रंग का, -सरोरुह-(पुं.) लाल कमल; -सार-(पुं.) लाल चन्दन, अमलवैत; -साव-किसी अंग से रुधिर का बहना; -हंसा-(स्त्री.) एक प्रकार की रागिनी; -हर-(पुं.) भल्लातक, मिलावां।

रक्तांग-(सं. पुं.) मंगल ग्रह, प्रवाल, मूंगा, खटमल, कुंकुम, केसर।

रक्तांबर-(सं. पुं.) लाल वस्त्र, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ संन्यासी।

रक्ता-(सं. स्त्री.) लाक्षा, धुंधची, वच।

रक्ताकर-(सं. पुं.) प्रवाल, मूंगा।

रक्तावत-(सं. पुं.) लाल चन्दन।

रक्ताक्ष-(सं. पुं.) गेंस, कबूतर, चणोेर।

रक्तातिसार-(सं. पुं.) एक प्रकार का रोग जिसमें दौध के साथ रुधिर निकलता है।

रक्ताधरा-(सं. स्त्री.) किन्नरी।

रक्ताधार-(सं. पुं.) चर्म, चमड़ा।

रक्ताब्ज-(सं. पुं.) लाल कमल।

रक्ताभ-(सं. पुं.) उन्मोष, वीरवहूटी।

रक्तारण-(सं. वि.) रुधिर के समान लाल।

रक्ताप- (सं. पुं.) लाल चन्दन।

रक्तालता-(सं. स्त्री.) मजीठ।

रक्तालू-(सं. पुं.) रक्तालू नामक कन्द।

रक्ताश्वारि-(सं. पुं.) लाल कनैर का फल।

रक्ताग्राव-(सं. पुं.) नाक में लाल रुधिर बहना।

रक्ताश- (सं. पुं.) अर्श रोग जिसमें रुधिर निकलता है।

रक्ति-(सं. स्त्री.) अनुराग, प्रेम, एक रत्ती का परिमाण।

रक्तिका-(सं. स्त्री.) धुंधची, रत्ती।

रक्तिमा-(सं. स्त्री.) ललाई।

रक्तोत्पल-(सं. पुं.) लाल कमल।

रक्तोत्पलाभ-(सं. पुं.) लाल रंग।

रक्तोदर-(सं. पुं.) रोहू मछली, एक प्रकार का बहुत विपैला विच्छू।

रक्तोपल-(सं. पुं.) लाल मिट्टी, गेरु।

रक्तीदन-(सं. पुं.) लाल चावल का भात।

रक्ष-(सं. वि.) रक्षा करनेवाला, रक्षा, लाह, राक्षस, छप्पय का एक भेद।

रक्षईश-(सं. पुं.) रावण।

रक्षक-(सं. पुं.) रक्षा करनेवाला, वचानेवाला, पहरेदार।

रक्षण-(सं. पुं.) रक्षा करना, पालन-पोषण करना; -कर्ता-(पुं.) रक्षा करनेवाला।

रक्षणीय-(सं. वि.) रक्षा करने योग्य।

रक्षन-(हि. पुं.) देखें 'रक्षण'।

रक्षना-(हि. क्रि. स.) रक्षा करना।

रक्षपाल-(सं. पुं.) रक्षा करनेवाला।

रक्षमाण-(सं. वि.) देखें 'रक्ष्यमाण'।

रक्षस-(हि. पुं.) राक्षस, दानव।

रक्षा-(सं. स्त्री.) (कष्ट, नाश या आपत्ति से) बचाना, गोंद, राख, भस्म, अनिष्ट निवारण के लिये हाथ में बांधा हुआ सूत्र; -गृह-(पुं.) सूतिकागृह; -पति-(पुं.) रक्षा-पुरुष, नगरवासियों की रक्षा करनेवाला; -पत्र-(पुं.) नोज-पत्र, सफेद सरसों; -पुरष-(पुं.) पहरेदार, अन्त-पुर का पहरा देनेवाला, नट; -प्रदीप-(पुं.) नूत-प्रेत आदि की बाधा से रक्षा करने के लिये जलाया हुआ दीपक; -बंधन-(पुं.) श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होनेवाला हिन्दुओं का एक त्योहार जिसमें हाथ की कलाई पर रक्षामूत्र बांधा जाता है; -मंगल-(पुं.) वह अनुष्ठान या धार्मिक क्रिया जो नूत-प्रेत की बाधा से रक्षित होने के लिये की जाय; -मपि-(पुं.) वह रत्न जो किसी धर्म के प्रकोप में बचने के लिये पहना जाय।

रक्षिक-(सं. पुं.) रक्षा, पहरेदार।

रक्षित-(सं. वि.) रक्षा किया हुआ, पालन-पोषा हुआ, रखा हुआ।

रक्षितव्य-(सं. वि.) रक्षा करने योग्य।

रक्षिता-(सं. स्त्री.) एक अस्त्र का नाम।

रक्षी-(हि. पुं.) राक्षसपूजक, देवें 'रक्षक'।

रक्षोगण-(सं. पुं.) राक्षसों का समूह।

रक्षोघ्न-(सं. पुं.) हौंग, सफेद सरसों, मिलावां का वृक्ष।

रक्षोजननी-(सं. स्त्री.) राक्षस की माता, रात्रि, रात।

रक्षोहन-(सं. वि.) राक्षस को मारनेवाला।

रक्ष्य-(सं. वि.) रक्षणीय, रक्षा करने योग्य।

रख-(हि. स्त्री.) पगुओं के चलने की नूमि।

रखटी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की रीत।

रखना-(हि. क्रि. स.) ठहराना, रक्षा करना, निर्वाह करना, सौंपना, बंधक या रेहन करना, नियुक्त करना, अपने अधिकार में लेना, रोक लेना, आश्रित करना, टैरा डालना, गर्भ धारण करना, पक्षियों का अण्डा देना, बचाना, सम्भोग करना, उपपत्नी बनाना, मन में धारण करना, चोट पहुँचाना, व्यवहार करना, स्थगित करना।

रखनी-(हि. स्त्री.) वह स्त्री जिससे विवाह न हुआ हो और जो योंही घर में रख ली गई हो, रखेली, मुरतिंग।

रखवाई-(हि. स्त्री.) खेत की रखवाली, रखने की क्रिया या ढंग, रखने का गुला, मजूरी, चौकीदारी।

रखवाना-(हि. क्रि. स.) रखने की क्रिया दूसरे से कराना।

रखवार-(हि. पुं.) रखवाला, चौकीदार।

रखवारी-(हि. स्त्री.) रखवाली।

रखवाला-(हि. पुं.) चौकीदार, पहरेदार।

रखवाली-(हि. स्त्री.) रक्षा करने की क्रिया या नाव।

रखाई-(हि. स्त्री.) देवें 'रखवाली'।

रखान-(हि. स्त्री.) चराई की नूमि।

रखाना-(हि. क्रि. स.) रखने का नाम दूसरे से कराना, रखवारी करना, नष्ट होने से बचाना।

रखिया-(हि. पुं.) रखनेवाला, गांध के पास का चट पूजा में पूजा के लिये मुरक्षित रत्न।

रखियाना-(हि. क्रि. स.) पक्षी जो गंध में मीठना।

रखेली-(हि. स्त्री.) रखनी, मुरतिंग।

रखैया-(हि. पुं.) देवें 'रखा'।

रखीत-(हि. पुं.) पगुओं के चलने के लिये टोड़ी हुई नूमि।

रख-(सं. स्त्री.) गण, लखड़ी, कम्प, पृष्ठ, विष्ट।

रख-(हि. स्त्री.) पगुओं के चलने के लिये टोड़ी हुई नूमि, कपड़ों पर, कपड़ों पर, कपड़ों पर।

रगड़ना—(हिं. क्रि. स.) घसना, पीसना, बहुत श्रम तथा शीघ्रता से कोई काम करना, अभ्यास करने के लिए कोई काम बारम्बार करना, स्त्री-प्रसंग करना, कष्ट देना ।

रगड़वाना—(हिं. क्रि. स.) दूसरे को रगड़ने में प्रवृत्त करना ।

रगड़ा—(हिं. पुं.) घर्षण, रगड़, अत्यन्त परिश्रम, वह झगड़ा जो शीघ्र समाप्त न हो ।

रगड़ान—(हिं. स्त्री.) रगड़ने की क्रिया या भाव ।

रगण—(सं.पुं.) छन्दःशास्त्र में तीन वर्णों का समूह जिसमें विचला वर्ण लघु तथा आदि-अन्त के वर्ण गुरु होते हैं ।

रगत—(हिं. पुं.) देखें 'रखत', रघिर ।

रगपट्टा—(हिं.पुं.) शरीर के भीतर मांसल अंश, किसी विषय की सूक्ष्म बातें ।

रगर (रा)—(हिं. पुं.) देखें 'रगड़', और 'रगड़ा' ।

रगवाना—(हिं. क्रि. स.) शान्त कराना, चुप कराना ।

रगा—(हिं. पुं.) मोर ।

रगाना—(हिं. क्रि. अ., स.) शान्त होना या करना ।

रगी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का मोटा अन्न, देखें 'रग्गी' ।

रगीला—(हिं. वि.) हठी, दुष्ट ।

रगेद—(हिं.स्त्री.) दौड़ाने या भगाने की क्रिया ।

रगेदना—(हिं. क्रि. स.) भगा देना ।

रग्गी—(हिं. स्त्री.) अधिक वर्षा के बाद होनेवाली वृष ।

रघु—(सं. पुं.) सूर्यवंशीय राजा दिलीप के पुत्र जो श्रीरामचन्द्र के प्रपितामह

य;—कुल—(पुं.) राजा रघु का वंश;—नन्दन—(पुं.) श्रीरामचन्द्र;

—नाय—(पुं.) श्रीरामचन्द्र;—नायक—(पुं.) श्रीरामचन्द्र;—पति—(पुं.) श्रीरामचन्द्र;—राज—(पुं.) श्रीराम;

—वंश—(पुं.) महाराज रघु का वंश जिसमें श्रीरामचन्द्र उत्पन्न हुए थे,

कालिदास कवि के एक महाकाव्य का नाम;—०कुमार,—०तिलक—(पुं.) श्रीरामचन्द्र;—वंशी—(वि.) जिसका जन्म रघु के वंश में हुआ हो; (पुं.) उत्तर भारतवासी क्षत्रियों के अन्तर्गत एक जाति;—वर—(पुं.) श्रीरामचन्द्र;

—वीर—(पुं.) श्रीरामचन्द्र ।

रघुत्तम—(सं. पुं.) रघुकुल में श्रेष्ठ, श्रीरामचन्द्र ।

रघदह—(सं. पुं.) देखें 'रघुत्तम' ।

रचना—(सं.स्त्री.) बनाने की क्रिया, निर्माण, माला बनाना, बाल गुंथना, यथाक्रम रखना, स्थापित करना, वाक्य-विन्यास,

चमत्कारयुक्त गद्य या पद्य, विश्वकर्मा की स्त्री का नाम; (हिं.क्रि.अ.,स.) हाथों से बनाकर प्रस्तुत करना, ग्रन्थ आदि लिखना, रंगा जाना, सजाना, अनुरक्त होना, उत्पन्न करना, कल्पना करना,

ठानना, निश्चित करना, क्रम से रखना ।

रचनीय—(सं.वि.) रचना करने योग्य ।

रचयिता—(सं. वि.) निर्माता, रचनेवाला ।

रचवाना—(हिं. क्रि. स.) रचने का काम दूसरे से कराना, मेहँदी या महावर लगवाना ।

रचाना—(हिं. क्रि.स.) बनाना, रचवाना ।

रचित—(सं.वि.) रचा हुआ, गुंथा हुआ, शोभित, निर्माण किया हुआ ।

रचितव्य—(सं. वि.,) रचना करने योग्य ।

रचिपच्चि—(हिं.अव्य.) परिश्रम से ।

रच्छा—(हिं.स्त्री.) देखें 'रक्षा' ।

रजःसार—(सं.पुं.) कर्पूर, कपूर ।

रज—(सं.पुं.) स्त्री का आतंज, स्त्री का कुसुम, पराग, रजोगुण, स्कन्द की सेना का नाम, वशिष्ठ के एक पुत्र का नाम, जल, पानी, धूल, रात्रि, ज्योति,

प्रकाश, भुवन, लोक, (हिं.पुं.) चाँदी ।

रजक—(सं. पुं.) धावक, घोड़ी ।

रजगुण—(हिं. पुं.) देखें 'रजोगुण' ।

रजतंत—(हिं.स्त्री.) शूरता, वीरता ।

रजत—(सं.पुं.) चाँदी, हाथी-दाँत, रघिर, हृद, तालाव; (वि.) सफेद रंग का,

शुक्ल, धवल;—कुंभ—(पुं.) रजत या चाँदी का कलश;—गिरि—(पुं.) कैलाश पर्वत;

—द्युति—(पुं.) हनुमान;—पात्र—(पुं.) चाँदी का पात्र;—प्रतिमा—(स्त्री.) रजत या चाँदी की बनी हुई प्रतिमा;

—भाजन—(पुं.) चाँदी का बना हुआ पात्र;—मय—(वि.) चाँदी का बना हुआ ।

रजताई—(हिं. स्त्री.) सफेदी ।

रजताकर—(सं.पुं.) चाँदी की खान ।

रजताचल—(सं.पुं.) चाँदी का पहाड़ ।

रजताद्रि—(सं. पुं.) कैलाश पर्वत ।

रजतोपम—(सं. वि.) चाँदी के सदृश ।

रजधानी—(हिं. स्त्री.) देखें 'राजधानी' ।

रजना—(हिं.क्रि.अ.,स.) रंगना, रगा जाना ।

रजनि—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात, हल्दी ।

रजनी—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात, हल्दी, वैवस्वत मनु की पत्नी का नाम;—कार—

(पुं.) चन्द्रमा;—गंधा—(स्त्री.) एक प्रकार का फूल;—चर—(पुं.) चन्द्रमा,

राक्षस, चोर; (विं.) रात में चलनेवाला;

—जल—(पुं.) कुहिरा;—पति—(पुं.) चन्द्रमा;—मुख—(पुं.) सन्ध्या;—रमण—(पुं.) चन्द्रमा ।

रजनीश—(सं.पुं.) चन्द्रमा ।

रजपूत—(हिं. पुं.) देख 'राजपूत' ।

रजपूती—(हिं. स्त्री.) क्षत्रिय होने का भाव, शूरता, वीरता, राजपूती ।

रजवलाह—(हिं. पुं.) मेघ, बादल ।

रजवली—(हिं. पुं.) भूपति, राजा ।

रजवहा—(हिं. पुं.) नदी या नहर से निकाला हुआ वह बड़ा नल जिससे और भी अनेक छोटे-छोटे नल निकलते हैं ।

रजवंती—(हिं. वि.) रजस्वला (स्त्री) ।

रजवट—(हिं.स्त्री.) क्षत्रियत्व, वीरता ।

रजवाड़ा—(हिं. पुं.) देशी राज्य ।

रजवार—(हिं. पुं.) राजा की सभा ।

रजस—(सं. वि.) अपवित्र, मैला ।

रजस्तोक—(सं.पुं.) लोभ, लालच ।

रजस्वला—(सं.वि.,स्त्री.) वह स्त्री जिसको मासिक धर्म होता हो, ऋतुमती ।

रजाई—(हिं. स्त्री.) जाड़े में ओढ़ने का दोहरा कपड़ा जिसमें रुई भरी होती है,

राजा होने का भाव ।

रजाना—(हिं. क्रि. अ.) राज्य-सुख भोग करना, बहुत अधिक सुख देना, अच्छी तरह से रखना ।

रजायस—(हिं. स्त्री.) आज्ञा, इच्छा ।

रजिया—(हिं.स्त्री.) अन्न नापने का प्रायः डेढ़ सेर का मान ।

रजोकुल—(हिं. पुं.) देखें 'राजकुल' ।

रजोगुण—(सं. पुं.) मनुष्यों की वह प्रकृति या स्वभा जिससे उनमें भोग-विलास तथा दिखावटी बातों में रुचि उत्पन्न होती है ।

रजोदर्शन—(सं.पुं.) स्त्रियों का रजस्वला होना ।

रजोधर्म—(सं.पुं.) स्त्रियों का मासिक धर्म ।

रजोवल—(सं. पुं.) अन्धकार ।

रजोमेघ—(सं.पुं.) धूल का मेघ ।

रजोरस—(सं.पुं.) अन्धकार, अन्धेरा ।

रजोहर—(सं.पुं.) रजक, घोड़ी ।

रज्जू—(सं. स्त्री.) रस्सी, घोड़े की लगाम, वागडोर, स्त्रियों के सिर की चोटी ।

रटत—(हिं.स्त्री.) रटने की क्रिया या भाव ।

रट—(हिं.स्त्री.) वारंवार किसी शब्द को उच्चारण करने की क्रिया ।

रटन—(हि. पुं.) कथन, कहना; (हि. स्त्री.) रटने की क्रिया या भाव ।
 रटना—(हि.क्रि.स.) किसी शब्द को बार-बार कहना, कण्ठस्थ करने के लिये बार-बार दोहराना ।
 रटित—(सं. वि.) कथित, रटा हुआ ।
 रठ—(हि. वि.) झुप्क, सूखा ।
 रठना—(हि. क्रि. स.) देखें 'रटना' ।
 रण—(सं.पुं.) युद्ध, लड़ाई, शब्द, गति; —कुशल—(वि.) वीर, योद्धा; —कारो—(वि.) युद्ध करनेवाला; —कृत्—(वि.) लड़ाई करनेवाला; —क्षिति—(स्त्री.) युद्धभूमि; —क्षेत्र—(पुं.) लड़ाई का मैदान; —छोड़—(हि.पुं.) श्रीकृष्ण का एक नाम; —जेता—(पुं.) युद्ध में जीतनेवाला; —सूर्य—(पुं.) लड़ाई का डंका; —हुंहुमी—(स्त्री.) युद्ध की मेरी; —न—(पुं.) कोलाहल का शब्द; —प्रिय—(वि.) युद्धप्रिय; (पुं.) विष्णु, वाजपदी; —भूमि—(स्त्री.) लड़ाई का मैदान; —मंडा—(स्त्री.) पृथ्वी; —मत्त—(पुं.) हाथी; (वि.) युद्ध में मत्त; —मुख—(पुं.) सेना का अग्रभाग; —मुट्टि—(पुं.) कुचिला; —मूर्धजा—(स्त्री.) काक्यांसगी; —रंक—(पुं.) हाथी के दोनों दाँतों के बीच का स्थान; —रंग—(पुं.) युद्ध का उत्साह, युद्ध-क्षेत्र; —रण—(पुं.) व्यग्रता, घबड़ाहट; —रणक—(पुं.) कामदेव, व्यग्रता, घबड़ाहट, उत्कण्ठा; —लक्ष्मी—(स्त्री.) विजय-उद्दमी, युद्ध की देवी जो विजय करानेवाली मानी जाती है; —पूति—(पुं.) सैनिक, सिपाही; —शिक्षा—(स्त्री.) युद्धाभ्यास; —नूर—(पुं.) वह जो युद्ध में वीरता दिखाता हो; —सिधा, सिहा—(पुं.) नरसिंहा, वुस्ही; —स्तंभ—(पुं.) वह स्तम्भ जो युद्ध में विजय प्राप्त करने पर स्मारक के रूप में बनवाया जाता है, विजय का स्मारक; —स्थल—(पुं.) रणभूमि, लड़ाई का मैदान; —स्थान—(पुं.) लड़ाई का मैदान; —स्वामी—(पुं.) भिन्न, महादेव; —हंस—(पुं.) एक वर्षयुक्त का नाम ।
 रणांगण—(सं. पुं.) लड़ाई का मैदान ।
 रणाप—(सं. पुं.) युद्ध का आरम्भ ।
 रणाजिर—(सं. पुं.) युद्धक्षेत्र ।
 रणातोष—(सं. पुं.) लड़ाई का डंका ।
 रणाभियोग—(सं.पुं.) युद्ध करना, लड़ना ।
 रणापुम—(सं. पुं.) युद्ध की मानवी ।

रणेश्वर—(सं. वि.) युद्ध-क्षेत्र में विचरने-वाला; (पुं.) विष्णु ।
 रणेश—(सं. पुं.) विष्णु, शिव, महादेव ।
 रण्य—(सं.वि.) रमणीय ।
 रण्यित—(सं. वि.) शब्द किया हुआ ।
 रत्—(सं.पुं.) मैथुन, स्त्रीप्रसंग, योनि, लिंग, प्रेम, प्रीति; (वि.) अनुरक्त, प्रेम में पड़ा हुआ, कार्य में लगा हुआ, लिप्त; (हि.पुं.) देखें 'रक्त', रुधिर ।
 रत्कोल—(सं.पुं.) कुत्ता ।
 रत्तगृह—(सं. पुं.) पति, स्वामी ।
 रत्तजगा—(हि.पुं.) किसी उत्सव, त्योहार आदि के उपलक्ष्य में सारी रात जागकर विताना, रात भर होनेवाला आनन्दोत्सव ।
 रत्तचर—(सं. पुं.) काक, कौआ ।
 रत्तताली—(सं. स्त्री.) कुटनी ।
 रत्तन—(हि. पुं.) देखें 'रत्न' ।
 रत्तनजोत—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का रत्न, एक प्रकार का पहारी पोषा जिसकी जट से लाल रंग निकलता है ।
 रत्तनाकर—(हि. पुं.) देखें 'रत्नाकर' ।
 रत्तनागर—(हि. पुं.) समुद्र ।
 रत्तनागरम्—(हि. स्त्री.) भूमि, पृथ्वी ।
 रत्तनार, रत्तनारा—(हि. वि.) कुछ लाल, (एक शब्द का प्रयोग विशेषतः सुंदर आँखों के लिये किया जाता है) ।
 रत्तनारी—(हि.स्त्री.) लाली, लालिमा; (पुं.) एक प्रकार का धान; (वि.स्त्री.) रत्तनार ।
 रत्तनारीच—(सं. पुं.) कुत्ता, लम्पट, व्यसनी पुरुष ।
 रत्तनालिपा—(हि. वि.) देखें 'रत्तनार' ।
 रत्तनावली—(हि. स्त्री.) देग 'रत्तावली' ।
 रत्तनिधि—(सं. पुं.) राजन पत्नी ।
 रत्तमुहां—(हि. वि.) लाल मुतावाला ।
 रत्ताजली—(सं.स्त्री.) लाल चन्दन ।
 रत्ताना—(हि. क्रि. अ., स.) रत होना, लीला करना, रत करना ।
 रत्तापनी—(सं. स्त्री.) वेरवा, रंटी ।
 रत्ताल—(हि.पुं.) विष्णुलाल, वाताही कन्द ।
 रति—(सं. स्त्री.) कामदेव की स्त्री, अनु-राग, प्रेम, कामवीर्य, संभोग, सोनाम्य, उषि, घोषा, साहित्य में शृंगार-रस का इयासी भाव, वाक्य-साहित्य के मन में एक-दूसरे के प्रति भावप्रेम; (हि. अल्प.) स्त्री, मोहन, मम; —कर—(वि.) आनन्ददायक; —कर्म—(पुं.) मैथुन; —कलह—(पुं.) संभोग, मम; —कति—(पुं.) कामदेव; —कृत्—(पुं.) योनि, मम; —केलि—(स्त्री.) संभोग-विलास; —किया—(स्त्री.) मैथुन, संभोग;

—गृह—(पुं.) स्नान-गृह, योनि;—जनक—(वि.) प्राति उत्पन्न करनेवाला;—ज—(वि.) जो रति क्रिया में चतुर हो;—तस्कर—(पुं.) वह जो स्त्रियों की संभोग करने के लिये प्रवृत्त करता हो;—ताल—(पुं.) ताल का एक नैद;—दान—(पुं.) मैथुन, संभोग;—देव—(पुं.) विष्णु, कुत्ता;—घन—(पुं.) शत्रुके अस्त्रों का नाश करनेवाला अस्त्र;—नाथ—(पुं.) कामदेव;—नाथक—(पुं.) कामदेव;—पति—(पुं.) कामदेव;—नाह—(हि.पुं.) कामदेव;—पद—(पुं.) एक वर्षयुक्त का नाम;—प्रिय—(पुं.) कामुक, कामदेव, —प्रिया—(स्त्री.) वह स्त्री जिसको मैथुन बहुत प्रिय हो;—ग्रय—(पुं.) मैथुन या संभोग करने का आसन;—भवन—(पुं.) वह स्थान जहाँ प्रेमी और प्रेमिता रतिक्रीड़ा करते हों;—भाव—(पुं.) प्रीतिभाव;—भोन—(हि.पुं.) रतिमयन;—मंदिर—(पुं.) योनि, मम, मैथुनगृह;—मदा—(स्त्री.) कपूर;—रत्तन—(पुं.) कामदेव, मैथुन;—रत्त—(पुं.) सहवास का सुत;—राज—(पुं.) कामदेव;—लंपट—(वि.) संभोग-श्रम;—रंत—(हि.वि.) सुन्दर;—वर्धन—(पुं.) कामदेव;—वाही—(पुं.) एक प्रकार का रान;—राधित—(स्त्री.) रमण करने का बल;—साहस—(पुं.) धान्य-धान्य, वह धान्य जिसमें रति की क्रियाओं का वर्णन हो;—संयोग—(पुं.) स्त्री-प्रसंग, मैथुन;—संहति—(स्त्री.) रान करने की योग्यता;—सम्भर—(पुं.) संभोग, मैथुन;—सायन—(पुं.) काम-साहसके अनुसार एक प्रकार का रतिमयन ।
 रती—(सं. स्त्री.) लाल मुँहगी; (हि. स्त्री.) अष्ट वाक्य का मूल, रती, देखें 'रति'; (वि.) घोड़ा, काम; (अल्प.) जरा का, रती नर ।
 रतुआ—(हि. पुं.) एक प्रकार की धाग ।
 रतोद्ग—(सं. पुं.) मोहित, शोषण ।
 रतोपल—(हि. पुं.) रान मुँहगी, रान-मुँहिया, रम ।
 रतोपी—(हि. स्त्री.) रान का वह रोग जिसमें रती की रान के कार्य कुछ निगर्द की शक्त ।
 रत—(हि. वि., पुं.) देखें 'रति' ।
 रती—(हि. स्त्री.) अष्ट वाक्य का मूल या अष्ट, रतन, रति, रत का भाव, रती, मोका; (हि.) रतन घोड़ा ।
 रती—(हि. स्त्री.) रान के भाव अष्ट वाक्य

अथवा सद्गुण जिसमें शिव रखकर अन्तिम संस्कार के लिये ले जाते हैं, टिकठी ।

रत्न- (सं.पुं.) कुछ विशिष्ट छोटे तथा चमकीले बहुमूल्य पदार्थ विशेषतः खनिज पदार्थ या पत्थर जो आभूषणों में जड़े जाते हैं, मणि, नगीना, वह जो अपने वर्ण या जाति में श्रेष्ठ हो; -कंदल- (पुं.) प्रवाल, मूंगा; -कर- (पुं.) कुवेर; -कर्णिका- (स्त्री.) करनफूल; -कलश- (पुं.) रत्न का बना हुआ कलसा; -कीर्ति- (पुं.) वृद्ध का एक नाम; -कूट- (पुं.) एक पर्वत का नाम; -कोटि- (स्त्री.) असंख्य रत्न; -खानि- (स्त्री.) रत्नों की खान, समुद्र; -गर्भ- (पुं.) कुवेर, समुद्र; -गर्भा- (स्त्री.) पृथ्वी, भूमि; -दीप- (पुं.) रत्न का दीपक; -द्रुम- (पुं.) प्रवाल, मूंगा; -धर- (पुं.) धनवान्; -नाभ- (पुं.) विष्णु; -निधि- (पुं.) समुद्र; -परीक्षक- (पुं.) रत्नों की परीक्षा करनेवाला, जौहरी; -पारखी- (हिं.पुं.) जौहरी; -प्रभा- (स्त्री.) पृथ्वी; -मंजरी- (स्त्री.) विद्याधरी का एक मेद; -भाला- (स्त्री.) मणियों की माला या हार; -मालिका- (स्त्री.) मणियों की छोटी माला; -माली- (वि.) रत्नों की माला पहननेवाला; -मुख्य- (पुं.) हीरा; -राजि- (स्त्री.) रत्नों का समूह; -राशि- (पुं.) समुद्र; -वती- (स्त्री.) पृथ्वी; -वृक्ष- (पुं.) मूंगा; -शाला- (स्त्री.) रत्न-जटित महल; -शिला- (स्त्री.) वह शिला जिसमें अनेक रत्न जड़ हों; -संग्रह- (पुं.) रत्नों का समुदाय; -संभव- (पुं.) एक बोधिसत्व का नाम; -सानु- (पुं.) सुमेरु पर्वत का नाम; -सू- (स्त्री.) पृथ्वी; -सूति- (स्त्री.) पृथ्वी ।

रत्नाक- (सं. पुं.) विष्णु का रथ ।

रत्नाकर- (सं.पुं.) रत्नों का समूह, समुद्र, बुद्धदेव, वाल्मीकि मुनि का पहला नाम ।

रत्नाधिपति- (सं. पुं.) कुवेर ।

रत्नाभरण- (सं. पुं.) रत्न का गहना ।

रत्नाभूषण- (सं. पुं.) जड़ाऊ गहना ।

रत्नालंकार- (सं. पुं.) रत्न का गहना ।

रत्नालोक- (सं. पुं.) रत्न की ज्योति ।

रत्नावली- (सं. स्त्री.) मोतियों की माला, मणियों की माला, एक रागिनी का नाम, एक अर्थालंकार जिसमें शब्दों के प्रयुक्त अर्थ के अतिरिक्त ठीक क्रम से वस्तु-समूह के नाम भी निकलते हैं ।

रत्नासन- (सं. पुं.) रत्नों का आसन ।

रत्नेद्र- (सं. पुं.) श्रेष्ठ रत्न ।

रत्नोत्तमा- (सं. स्त्री.) तान्त्रिकों की एक देवी का नाम ।

रथ- (सं. पुं.) काय, शरीर, चरण, पैर, वैत, प्राचीन काल का एक प्रकार का यान जिसमें दो या अधिक पहिये होते थे, गाड़ी, क्रीड़ा-स्थान, शतरंज का एक मोहरा, ऊँट; -कर- (पुं.) रथ बनानेवाला, बढ़ई; -कार- (पुं.) रथ बनानेवाला; -कारक- (पुं.) बढ़ई; -कारत्व- (पुं.) बढ़ई का काम; -कुटुंबिक- (पुं.) रथ हाँकनेवाला; -केतु- (पुं.) रथ में लगी हुई च्वजा; -क्षोभ- (पुं.) रथ का हिलना-डोलना; -गर्भक- (पुं.) शिविर, पालकी आदि सवारी जो कन्धों पर उठाकर ढोते हैं; -घोष- (पुं.) रथ का शब्द; -चक्र- (पुं.) रथ का पहिया; -चरण- (पुं.) चक्रवा पक्षी; -चर्या- (स्त्री.) रथ का चलना; -जंघा- (स्त्री.) रथ का पिछला भाग; -ज्ञान- (पुं.) रथ हाँकने में निपुणता; -दाह- (पुं.) वह लकड़ी जिससे रथ बनाया जाता है; -धूर- (स्त्री.) रथ का पहिया; -पति- (पुं.) रथ का सारथी; -पथ- (पुं.) जिस मार्ग पर रथ चल सके; -बंध- (पुं.) रथ बाँधने की रस्सी; -यात्रा- (स्त्री.) देव-देवी को रथ पर बिठाकर उसे खींचने का उत्सव, एक पर्व जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होता है; -युद्ध- (पुं.) रथ पर चढ़कर युद्ध करना; -यूथ- (पुं.) रथों का समूह; -योजक- (पुं.) सारथी; -वर- (पुं.) उत्तम रथ; -वान- (हिं.पुं.) रथ हाँकनेवाला; -वाह- (पुं.) सारथी, घोड़ा; -वाहक- (पुं.) रथ हाँकनेवाला; -विद्या- (स्त्री.) रथ हाँकने की विद्या; -वीति- (पुं.) तपस्या करनेवाला; -वेग- (पुं.) रथ चलने की गति; -व्रज- (पुं.) रथों का समूह; -शाला- रथ रखने का स्थान; -शिक्षा- (स्त्री.) रथ चलाने का कौशल; -सप्तमी- (स्त्री.) माघ शुक्ल सप्तमी; -सूत्र- (पुं.) रथ बनाने का नियम; -स्थ- (वि.) रथ पर बैठा हुआ; -स्वन- (पुं.) रथ का शब्द ।

रथाग्र- (सं. पुं.) श्रेष्ठ योद्धा ।

रथाग्र- (सं. पुं.) वेतस, वैत ।

रथारथि- (सं. अव्य.) रथों पर चढ़कर युद्ध करना ।

रथासृ- (सं. वि.) रथ पर बैठा हुआ ।

रथारोह- (सं. वि.) रथ पर बैठकर युद्ध करनेवाला ।

रथारोही- (सं. वि.) देखें 'रथारोह' ।

रथार्भक- (सं. पुं.) छोटा रथ ।

रथाश्व- (सं.पुं.) रथ में जोतने का घोड़ा ।

रथिक- (सं. पुं.) रथ का सवार ।

रथी- (सं. पुं.) रथ पर चढ़कर लड़नेवाला, योद्धा; (वि.) रथ पर चढ़ा हुआ; (हि. स्त्री.) अस्थी, शव को ले जाने का ढाँचा ।

रथोत्सव- (सं.पुं.) रथयात्रा नामक उत्सव ।

रथोद्धता- (सं. स्त्री.) ग्यारह अक्षरों का एक वर्णवृत्त ।

रथोध- (सं. पुं.) रथ का वेग ।

रथ्या- (सं. स्त्री.) रथ का मार्ग या लकीर, नाली, आँगन, गली ।

रथ- (सं. पुं.) दन्त, दाँत; (अ. वि.) नष्ट, तुच्छ, निरर्थक ।

रथच्छद- (सं.पुं.) ओष्ठ, ओठ; (हिं.पुं.) रति के समय दाँतों का चिह्न ।

रथदान- (सं. पुं.) रति के समय दाँतों से ऐसा दवाना कि चिह्न पड़ जाय ।

रथदन- (सं. पुं.) दन्त, दाँत; -च्छद- (पुं.) ओठ, देखें 'रथच्छद' ।

रथनी- (हिं. वि.) दाँतवाला ।

रथपट- (सं. पुं.) ओष्ठ, ओठ ।

रथ- (अ. वि.) निकम्मा, निकृष्ट ।

रथा- (हिं. पुं.) भीत की पूरी लंबाई में एक ईट की जोड़ाई, का कुल अंश, मिट्टी की भीत उठाने में उतना अंश जितना चारों ओर एक वार में उठाया जाता है, चमड़ की मोहरी जो भालू के मुँह पर बाँधी जाती है, थाली में मिठाइयों की एक पर एक रखी हुई श्रेणी, वस्तुओं की एक के ऊपर एक रखी हुई श्रेणी, कुश्ती में गरदन पर कुहनी से मारना ।

रथी- (हिं. वि.) (वह पदार्थ) जो काम न आवे; (स्त्री.) कागज आदि जो काम में न आने के कारण फेंक दिये जाते हैं ।

रथार- (हिं. स्त्री.) ओढ़ने का वस्त्र, दोहर ।

रथ- (हिं. पुं.) रण, युद्ध, लड़ाई, वन, जंगल, समुद्र का छोटा अंश, ताल, झील ।

रथकना- (हिं. क्रि. अ.) घुँघरू आदि का घीमा शब्द होना ।

रथछोर- (हिं. पुं.) देखें 'रणछोड़' ।

रथना- (हिं. क्रि. अ.) वजना, झनकार होना ।

रथवरिया- (हिं. स्त्री.) एक प्रकार की पहाड़ी भेड़ ।

रथवंका, रथवाँकुरा- (हिं. पुं.) योद्धा, शूर-वीर ।

रत्नलापिका—(हिं. स्त्री.) गौ, गाय।
 रत्नवादी—(हिं. वि.) शूर, योद्धा।
 रत्नवास—(हिं. पुं.) महल में रानियों के रहने का स्थान, अन्तःपुर।
 रत्नित—(हिं. वि.) रणित, ज्ञान-ज्ञान शब्द करता हुआ।
 रत्नवास—(हिं. पुं.) देखें 'रत्नवास'।
 रत्नी—(हिं. पुं.) योद्धा, लड़नेवाला।
 रत्नत—(हिं. पुं.) माला, वरछा।
 रत्नट—(हिं. स्त्री.) अम्यास, रत्नटने की क्रिया या भाव, फिसलन, उतार, दौड़, सूचना।
 रत्नटना—(हिं. क्रि. अ.) पैर जम न सकने के कारण किसी ओर सरकना, वेग से चलना, झपटना, किसी काम को झपट पूरा करना, मैथुन करना।
 रत्नटाना—(हिं. क्रि. स.) सरकाना, फिसलाना, रत्नटने में प्रेरित करना।
 रत्नट्टा—(हिं. पुं.) फिसलने की क्रिया या भाव, फिसलाव, झपट्टा, चपेट, दौड़-धूप।
 रत्पाती—(हिं. स्त्री.) तलवार।
 रत्फल—(हिं. स्त्री., अंग्रेजी राइफल का अपभ्रंश) एक प्रकार की बंदूक; (पुं.) ऊनी चादर जो जाड़े में ओढ़ी जाती है।
 रत्फचक्कर—(हिं. वि.) गायब, चंपत।
 रत्पत्तार—(फा. स्त्री.) गति, चाल, दौड़, वेग।
 रत्बड़ना—(हिं. क्रि. अ., स.) धूमना, धुमाना, चलाना, फेरना।
 रत्बड़ी—(हिं. स्त्री.) औटाकर गाढा और लच्छेदार किया हुआ दूध जिसमें चीनी मिलाई जाती है, बर्सांधी।
 रत्बदा—(हिं. पुं.) पैदल चलने से होने वाली थकावट, कीचड़।
 रत्बरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'रत्बड़ी'।
 रत्बाना—(हिं. पुं.) एक प्रकार का छोटा डफ जिसमें मजीरे लगे होते हैं।
 रत्बाव—(अ. पुं.) एक तरह की सारंगी।
 रत्बाधिया—(हिं. पुं.) रत्बाव बजानेवाला।
 रत्बी—(हिं. स्त्री.) वसन्त ऋतु, वसन्त ऋतु में काटी जानेवाली फसल।
 रत्बील—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की पहाड़ी चिड़िया।
 रत्ब्व—(सं. वि.) ग्रहण किया हुआ, आरंभ किया हुआ।
 रत्भत्त—(सं. पुं.) वेग, हर्ष, उत्सुकता।
 रत्भोवा—(सं. वि.) बल देनेवाला।
 रत्भ—(सं. पुं.) कामदेव, प्रेमी; (वि.) प्रिय, सुन्दर, आनन्ददायक।
 रत्भक—(सं. पुं.) उपपत्ति, जार; (हिं. स्त्री.) जले की पैंग, तरंग, शकोरा।

रत्भकजरा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का वान।
 रत्भकना—(हिं. क्रि. अ.) हिडोले पर पैंग मारना, इतराते हुए चलना।
 रत्भककरा—(हिं. पुं.) बेसन की मोटी रोटी।
 रत्भकशोला—(हिं. पुं.) पैर में पहनने का घुंघरू, नूपुर।
 रत्भठ—(सं. पुं.) हींग।
 रत्भण—(सं. पुं.) रति, सुरत, मैथुन, श्रीड़ा, विलास, कामदेव, पति, अण्डकोष, सूर्य का सारथि, धूमना-फिरना, एक वर्णिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में तीन अक्षर होते हैं; (वि.) सुन्दर, मनोहर, रमनेवाला, आनन्द देनेवाला;
 -गमना—(स्त्री.) वह नायिका जो यह समझकर दुःखी होती है कि संकेत-स्थान पर नायक आया होगा परन्तु वह उस स्थान पर उपस्थित न थी।
 रत्भणा, रत्भणी—(सं. स्त्री.) नारी, स्त्री, सुन्दर स्त्री, सुगन्धवाला नामक गन्ध-द्रव्य।
 रत्भणीक—(सं. वि.) सुन्दर, मनोहर।
 रत्भणीय—(सं. वि.) रत्भणीक, सुन्दर;
 -ता—(स्त्री.) सुन्दरता, साहित्य दर्पण के अनुसार वह मायुर्य जो सब अवस्थाओं में बना रहे अथवा क्षण-क्षण में नया रूप धारण करे।
 रत्भता—(हिं. वि.) एक ही स्थान पर जमकर न रहनेवाला, धूमता-फिरता।
 रत्भदी—(हिं. पुं.) एक प्रकार का अग-हूनिया धान।
 रत्भन—(हिं. पुं.) देखें 'रत्भण'।
 रत्भना—(हिं. क्रि. अ.) सुख-प्राप्ति या विलास के निमित्त कहीं ठहरना, व्याप्त होना, इधर-उधर धूमना, अनुरक्त होना, चैन करना, आनन्द करना; (पुं.) वह सुरक्षित स्थान जहाँ पशु मृगया के लिये छोड़े जाते हैं, कोई सुन्दर या रत्भणीक स्थान, चरागाह।
 रत्भनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'रत्भणी'।
 रत्भनीक—(हिं. वि.) देखें 'रत्भणीक'।
 रत्भना—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी; -कांत—(पुं.) विष्णु; -धव—(पुं.) विष्णु; -नरेश—(पुं.) विष्णु; -नाथ—(पुं.) विष्णु; -निवास्त—(पुं.) लक्ष्मीपति, विष्णु; -पति—(पुं.) विष्णु, श्रीकृष्ण; -प्रिय—(पुं.) पय, कमल, विष्णु; -रत्भण—(पुं.) लक्ष्मीपति, विष्णु।
 रत्भनाना—(हिं. क्रि. स.) अनुरजित करना, मोहित करना, संयुक्त करना, जोड़ना, रोक रतना, ठहराना, अपने अनुकूल बनाना।

रत्भाली—(हिं. पुं.) एक प्रकार का महीन धान।
 रत्भश्रय—(सं. पुं.) विष्णु, श्रीकृष्ण।
 रत्भित—(हिं. वि.) मुग्ध, लुभाया हुआ।
 रत्भी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की घास।
 रत्भेश, रत्भेश्वर—(सं. पुं.) विष्णु।
 रत्भसीती—(हिं. स्त्री.) आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के खेतों में काम करने की किसानों में प्रचलित प्रथा, ऐसा काम, पंठी।
 रत्भसीती—(हिं. स्त्री.) कवीरदास के बीजक का एक भाग जिसमें दोहे और चौपाइयाँ हैं।
 रत्भसीया—(हिं. पुं.) राम, ईश्वर।
 रत्भस्य—(सं. वि.) सुन्दर, मनोहर, रत्भणीय;
 (पुं.) चम्पक वृक्ष, वायु का एक भेद;
 -ता—(स्त्री.) सोन्दर्य; -धी—(पुं.) विष्णु
 रत्भस्या—(सं. स्त्री.) स्थलपत्त्रिणी, रात्रि, एक रागिनी का नाम।
 रत्भहाना—(हिं. क्रि. अ.) गाय का बोलना।
 रत्भ—(सं. पुं.) प्रवाह, धूल।
 रत्भन—(हिं. स्त्री.) रात्रि, रात।
 रत्भना—(हिं. क्रि. अ.) उच्चारित करना, बोलना, संयुक्त करना, मिलाना, रँगना।
 रत्भसात—(हिं. स्त्री.) देखें 'रियासात'।
 रत्भयि—(सं. पुं.) धन, ऐश्वर्य; -पति—(पुं.) कुवेर; -मत्—(वि.) धनवान्;
 -धन्—(वि.) धन की इच्छा करनेवाला; -पठ—(पुं.) बहुत धनी; कुवेर, धनि।
 रत्भयत—(हिं. स्त्री.) रैयत, प्रजा।
 रत्भकार—(हिं. पुं.) रकार की ध्वनि।
 रत्भर—(हिं. स्त्री.) वह नीत जो ढड़े-ढड़े पत्थरों के ढोंकों को एक के ऊपर एक रखकर बनाई गई हो, और चूने, गारे आदि से जोड़ी न गई हो, रट, रटन।
 रत्भरकना—(हिं. क्रि. अ.) कष्ट देना, पीड़ा देना, कसकना।
 रत्भरना—(हिं. क्रि. अ.) बारंबार एक ही बात कहना या रटना।
 रत्भरट—(सं. पुं.) देखें 'ललाट'।
 रत्भरिहा—(हिं. पुं.) रटनेवाला, गिगमंगा, लफ्फा नामक पक्षी।
 रत्भरी—(हिं. वि.) शगुल, अयम, मोन, बहुत गिगमिगाकर माँगनेवाला।
 रत्भरना—(हिं. क्रि. अ.) एक में एक मिलना।
 रत्भराना—(हिं. क्रि. अ.) एक में एक मिलाना।
 रत्भरी—(हिं. स्त्री.) आनन्द, प्रशंसा, श्रीड़ा, चिह्न, रत्भना नामक अन्न।
 रत्भरल—(हिं. पुं.) योन्नायक, रत्भना।
 रत्भर—(सं. पुं.) मग्ध, धर्मि, सुन्दर, कोला-

रसोद्भव-(सं.पुं.) शिगरफ, रसौत;
(वि.) रस से उत्पन्न।
रसौन-(सं. पुं.) लशुन, लहसुन।
रसौपल-(सं. पुं.) मौक्तिक, मोती।
रसौय-(हि. स्त्री.) देखें 'रसोई'।
रसोल्लास-(सं. पुं.) कामोद्दीपन, आठ
सिद्धियों में से एक।
रसौ (सौ) त-(हि. स्त्री.) एक औषधि
जो दारु-हल्दी की जड़ और लकड़ी
को पानी में आटाकर तथा खूब गाढ़ा
करके बनती है।
रसौती-(हि. स्त्री.) धान की एक विशेष
प्रकार की बोआई।
रसौर-(हि.पुं.) ऊख के रस में पकाया
हुआ चावल।
रसौल-(हि.स्त्री.) एक प्रकार की कैंटीली
लता।
रसौली-(हि. स्त्री.) वह रोग जिसमें
आंखों के ऊपर भौं के पास गिल्टी निकल
आती है।
रस्ता-(हि.पुं.) रास्ता, मार्ग।
रस्तावगी, रस्तोगी-(हि. पुं.) भारत के
पश्चिमोत्तर प्रदेश में रहनेवाली बनिया
जाति की एक शाखा।
रस्मि-(हि.स्त्री.) देखें 'रस्मि', किरण।
रस्सा-(हि.पुं.) कई पतली रस्सियों को
बटकर बनाई हुई मोटी रस्सी।
रस्सी-(हि.स्त्री.) रज्जू, डोरी; -बाट-
(पुं.) रस्सी बनानेवाला।
रहकला-(हि.पुं.) एक प्रकार की हलकी
गाड़ी, तोप लाने की गाड़ी, इस गाड़ी
पर लदी हुई तोप।
रहचटा-(हि. पुं.) मनोरथ-सिद्धि की
अभिलाषा, चसका।
रहट-(हि.पुं.) कुएँ से पानी निकालने का
एक प्रकार का यन्त्र।
रहटा-(हि.पुं.) सूत कातने का चरखा।
रहटी-(हि.स्त्री.) कपास ओटने की चरखी।
रहचह-(हि.स्त्री.) चिड़ियों का बोलना।
रहठा-(हि.पुं.) रहूर के पौधे का सूखा डंठल।
रहण-(सं. पुं.) फेंकना, साथ छोड़ना।
रहन-(हि. स्त्री.) रहने की क्रिया या
भाव, रहने का ढंग, व्यवहार; -सहन-
(स्त्री.) जीवन-निर्वाह का नियत ढंग,
चाल-चलन।
रहना-(हि.क्रि.अ.) स्थित होना, ठहरना,
प्रस्थान न करना, रुकना, स्थापित
होना, जीवित रहना, बचना, छूट जाना,
निवास करना, बसना, कामकाज करना,
नोकरी करना, मैथुन करना, चूपचाप

समय बिताना, अस्थायी रूप में होना,
काम करना बंद करना, उपस्थित
होना, थमना, छूट जाना; (मुहा.)
रह जाना-रुक जाना, सफल न होना।
रहनि-(हि.स्त्री.) आचरण, चाल-ढाल,
प्रेम, देखें 'रहन'।
रहर-(हि.स्त्री.) देखें 'अरहर'।
रहलू-(हि.स्त्री.) खाद ढोने की छोटी गाड़ी।
रहरठा-(हि.पुं.) देखें 'रहठा', कड़िया।
रहलू-(हि. स्त्री.) देखें 'रहलू'।
रहस-(हि.पुं.) निर्जन स्थान, गुप्त भेद,
छिपी बात, आनन्द, सुख, गूढ़ तत्त्व-
योग, तन्त्र आदि की गुप्त बात; (सं.
पुं.) समुद्र, स्वर्ग।
रहसना-(हि. क्रि. अ.) आनन्दित होना,
प्रसन्न होना।
रहस-बधावा-(हि.वि.) विवाह की एक
रीति जिसमें नवविवाहिता बधू के वर
के साथ घर आने पर स्त्रियाँ तथा गुरुजन
उसका मुख देखते और वस्त्र, आभूषण
आदि उपहार देते हैं।
रहसि-(हि.स्त्री.) एकान्त या गुप्त स्थान।
रहसू-(सं.स्त्री.) व्यभिचारिणी स्त्री।
रहस्य-(सं. पुं.) गूढ़ तत्त्व, गुप्त भेद,
मर्म की बात, भीतरी या छिपी बात,
हँसी, ठट्ठा।
रहाई-(हि.स्त्री.) रहने की क्रिया या भाव।
रहाज-(हि. स्त्री.) गीत का टेक।
रहाना-(हि. क्रि. अ.) रहना, होना।
रहावन-(हि. स्त्री.) वह स्थान जहाँ
गाँव भर के पशु इकट्ठे होते हों।
रहासहा-(हि.वि.) वचा हुआ, अवशिष्ट।
रहित-(सं. वि.) वरजित, बिना।
रहिला-(हि. पुं.) चना।
रहोगत-(सं.वि.) निजन स्थान में स्थित।
राँक-(हि. वि.) देखें 'रंक'।
राँकड़-(हि.स्त्री.) कंकरीली भूमि जिसमें
बहुत कम अन्न उत्पन्न होता है।
राँगड़ी-(हि.पुं.) एक प्रकार का चावल।
राँगा-(हि.पुं.) एक प्रसिद्ध घातु जो बहुत
नरम और सफेद रंग की होती है।
राँच-(हि. अव्य.) देखें 'रंच'।
राँचना-(हि. क्रि. अ., स.) चाहना, प्रेम
रंग बढ़ाना।
राँजना-(हि. क्रि. सं.) आंखों में काजल
लगाना, रंगना।
राँटा-(हि.पुं.) टिट्ठिहरी नामक पक्षी।
राँड़-(हि.स्त्री.) विधवा स्त्री, वेश्या, रंडी।
राँढ़-(हि.पुं.) एक प्रकार का चावल।
राँढना-(हि. क्रि. अ.) रोना।

राँता-(हि. वि.) राँगे का बना हुआ।
राँघ-(हि. पुं.) निकट, पास, पड़ोस।
राँधना-(हि.क्रि.सं.) भोजन आदि पकाना।
राँपी-(हि.स्त्री.) मोचियों का एक औजार
जो पतली खुरपी के आकार का होता है।
राँभना-(हि. क्रि. अ.) गाय का बोलना,
रँभाना।
रा-(सं. स्त्री.) विभ्रम, दान; (पुं.)
शब्द, धन।
राँभा-(हि. पुं.) राजा।
राइ-(हि.पुं.) छोटा राजा, राय, सरदार।
राइता-(हि. पुं.) देखें 'रायता'।
राई-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की बहुत
छोटी सरसों, बहुत थोड़ी मात्रा या
परिमाण; (पुं.) छोटा राजा, राजा;
(मुहा.) -नौन उतारना-जिस बच्चे
को कुदृष्टि (नजर) लगी हो उसके सिर
के ऊपर से राई और नमक उतारकर
अग्नि में डालना; -से पर्वत करना-
थोड़ी-सी बात को बहुत बढ़ा देना, रंक
को राजा बनाना।
राउ-(हि.पुं.) राजा, नृप।
राउत-(हि. पुं.) राजवंश का कोई
पुरुष, क्षत्रिय।
राउर-(हि. पुं.) अन्तःपुर; (सर्व.)
आपका, श्रीमान् का।
राउल-(हि. पुं.) देखें 'राउत', राजा।
राकस-(हि. पुं.) देखें 'राक्षस'।
राकसिन-(हि.स्त्री.) राक्षसी, निशाचरी।
राका-(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसको
पहले-पहल रजोदर्शन हुआ हो, पूर्णिमा
की रात या चन्द्रमा, शूणखा की माता
जो राक्षसी थी; -चंद्र-(पुं.) पूर्णिमा का
चन्द्रमा, -रमण-(पुं.) पूर्ण चंद्रमा।
राकिणी-(सं. स्त्री.) देवी की एक शक्ति
जो चौसठ योगिनियों के अन्तर्गत है।
राकेश-(सं. पुं.) पूर्ण चन्द्रमा।
राक्षस-(सं. पुं.) दैत्य, असुर, निशाचर;
(पुं.) साठ संवत्सरों में से उनचासवाँ
संवत्सर, कुबेर के कोप का रक्षक,
दुष्ट प्राणी।
राक्षसग्रह-(सं. पुं.) उन्माद रोग।
राक्षसता-(सं. स्त्री.) राक्षस का भाव
या धर्म।
राक्षस-विवाह-(सं. पुं.) वह विवाह
जिसमें युद्ध करके कन्या-हरण किया
जाता है।
राक्षसी-(सं. स्त्री.) असुर की स्त्री,
संख्याकाल; (वि.) राक्षस-जैसा।
राक्षसेंद्र-(सं. पुं.) रावण।

राक्षा—(हिं. स्त्री.) लाक्षा, लह।
 राख—(हिं. स्त्री.) भस्म, राखी।
 राखना—(हिं. क्रि. स.) रक्षा करना, बचाना, रखवाली करना, जाने न देना, रोक रखना, कपट करना, छिपाना, आरोप करना, बताना, देखें 'रखना'।
 राखी—(हिं. स्त्री.) हाथ की कलाई पर बाँधने का मंगल-सूत्र, रक्षाबन्धन का डोरा, देखें 'राख'।
 राग—(सं. पुं.) अनुराग, मोह, चन्द्रमा, सूर्य, नाच, मात्सर्य, प्रीति, प्रेम, अभिमत विषय की अभिलाषा, सांसारिक सुखों की अभिलाषा, ईर्ष्या, द्वेष, कष्ट, पीड़ा, सिन्दूर, आलता, संगीत-शास्त्र का लय-युक्त स्वर, अंग-राग, सुगन्धित लेप जो शरीर पर लगाया जाता है, रंग, विशपतः लाल रंग, एक वर्णवृत्त का नाम; (मुहा.) अपना राग अलापना—अपने ही विषय की बातें करना।
 रागद—(सं. वि.) राग उत्पन्न करनेवाला, क्रोध दिलानेवाला।
 रागदालि—(सं. पुं.) मसूर।
 रागना—(हिं. क्रि. अ.) अलापना, गाना गाना, रँग जाना, अनुरक्त होना, प्रेम करना।
 रागनी—(हिं. स्त्री.) संगीत में किसी राग की पत्नी।
 रागपट्ट—(सं. पुं.) एक प्रकार का बहु-मूल्य पत्थर।
 रागपुष्प, रागप्रसव—(सं. पुं.) गुलदुपहरिया।
 रागबंध—(सं. पुं.) अनुराग का चिह्न।
 रागभंजन—(सं. पुं.) एक विद्याधर का नाम।
 रागमाला—(सं. स्त्री.) रागों का समूह।
 रागयुज—(सं. पुं.) माणिक्य, मानिक।
 रागलता—(सं. स्त्री.) कामदेव की स्त्री, रति।
 रागलेखा—(सं. स्त्री.) चन्दन आदि का चिह्न।
 रागविवाद—(सं. पुं.) गाली-गालौज।
 रागवंत—(सं. पुं.) कामदेव।
 रागसारा—(सं. स्त्री.) मैनसिल।
 रागांगी—(सं. स्त्री.) मजीठ।
 रागांध—(सं. वि.) अति क्रोधी।
 रागान्वित—(सं. वि.) क्रोधी, जिसको राग या प्रेम हो।
 रागिनी—(सं. स्त्री.) संगीत में किसी राग की पत्नी, विदग्धा स्त्री, जयश्री, मेनका की बड़ी कन्या का नाम।
 रागी—(हिं. वि.) अनुरक्त, विषय-वासना में फँसा हुआ, अनुरागी, प्रेमी, रँगनेवाला, रँगा हुआ; (पुं.) मँडू आ नामक कदम; एक छन्द का नाम; (स्त्री.) देखें 'रानी'।
 राघव—(सं. पुं.) रघु के वंश में उत्पन्न कोई

व्यक्ति, श्री रामचन्द्र, भज, दशरथ, समुद्र में मिलनेवाली एक बहुत बड़ी मछली।
 राचना—(हिं. क्रि. अ., स.) रचना, बनाना, रचा जाना, बनना, रँगा जाना, लीन या मग्न होना, शोभा देना, अच्छा जान पड़ना, प्रसन्न होना, सोच में पड़ना, अनुरक्त होना, रंजित होना, डबना।
 राछ—(हिं. पुं.) जुलाहे के करघे का वह औजार जो ताने के तांगे को उठाता और गिराता है, बरात, लोहार का बड़ा हथौड़ा, चक्की के बीच का बूँटा, लकड़ी के भीतर का हीर;—ब्रौधिया—(पुं.) राछ बाँधनेवाला मनुष्य।
 राछस—(हिं. पुं.) देखें 'राक्षस'।
 राज—(सं. पुं.) देश का अधिकार या प्रबन्ध, प्रजा-पालन की व्यवस्था, शासन, पूर्ण अधिकार, अधिकार का काल, राष्ट्र, देश, जनपद, उतना भूमिभाग जितना एक राजा द्वारा शासित हो, राजा, घर आदि बनानेवाला राजगीर, थवई; (मुहा.)—पर बैठना—राज-सिंहासन पर बैठना;—रजना—बड़े आनन्द से रहना;—क—(पुं.) राजा; (वि.) चमकानेवाला;—क्या—(स्त्री.) राजाओं का इतिहास;—कन्या—(स्त्री.) राजा की पुत्री;—कर—(पुं.) वह कर जो प्रजा से राजा को मिलता है;—करण—(पुं.) न्यायालय, राजनीति;—कण—(पुं.) हाथी की सूँड़;—कर्ता—(पुं.) वह पुरुष जो राजा बनाने की शक्ति रखता है;—कर्म—(पुं.) राजा का कार्य;—कला—(स्त्री.) चन्द्रमा की सोलह कलाओं में से एक;—कशरू—(पुं.) नागरमोथा;—काज—(हिं. पुं.) राजा का कार्य;—कार्य—(पुं.) राजा का काम;—कार्श—(पुं.) शाल वृक्ष;—काष्ठ—(पुं.) बकम की लकड़ी;—कीय—(वि.) राजा-संबंधी, राज्य-संबंधी;—कुंअर—(हिं. पुं.) राज-कुमार;—कुमार—(पुं.) राजा का पुत्र;—कुमारी—(स्त्री.) राजा की पुत्री;—कुल—(स्त्री.) राजवंश;—कुलक—(पुं.) परवल की लता का नाम;—कृत—(वि.) राजा द्वारा किया हुआ;—कृत्य—(पुं.) राजा का काम;—कोलाहल—(पुं.) संगीत में एक ताल का नाम;—क्रिया—(स्त्री.) राजकार्य;—गद्दी—(हिं. स्त्री.) राजा के बैठने का आसन, राज-सिंहासन, राज्याभिषेक;—गावी—(स्त्री.) गाय की जाति का एक पशु;—गिरि—(पुं.) मगध देश के एक पर्वत का नाम, राजगृह;—गीर—(हिं. पुं.) पक्का घर बनानेवाला, राज, थवई;

—गीरी—(स्त्री.) राजगीर का कार्य या पद;—गुरु—(पुं.) राजा का गुरु या उपदेशक;—गृह—(पुं.) राजमवन, मगध राज्य की प्राचीन राजधानी;—गृह—(हिं. पुं.) देखें 'राजमवन';—चूड़ामणि—(पुं.) संगीत में एक ताल का नाम;—तनय—(पुं.) राजपुत्र;—तरंगिणी—(स्त्री.) कल्हण कवि-कृत काश्मीर का प्राचीन इतिहास जो संस्कृत में लिखा हुआ है;—तरु—(पुं.) अमलतास, सुपारी का पेड़;—तिमिश—(पुं.) तरबूज;—तिलक—(पुं.) किसी नये राजा के राज-सिंहासन पर बैठने का संस्कार, राज्याभिषेक;—त्व—(पुं.) शासन, राजा का पद, राजा का भाव या कर्म;—दंड—(पुं.) राज-शासन, वह दण्ड जो राजा को आज्ञा के अनुसार दिया जाय;—दंत—(पुं.) दाँतों की पंक्ति के बीच के वे दाँत जो औरों से बड़े होते हैं;—दशन—(पुं.) राजा का दर्शन;—दुहिता—(स्त्री.) राजा की कन्या;—दूत—(पुं.) वह पुरुष जो एक राज्य की ओर से अन्य राज्य में किसी विशिष्ट कार्य के लिए भेजा जाता है;—द्रुम—(पुं.) अमलतास;—द्रोह—(पुं.) राजा अथवा राज्य के विरुद्ध आचरण;—द्रोही—(वि.) राजा या राज्य का द्रोही;—द्वार—(पुं.) राजमवन का द्वार, राजा की इयोढ़ी, विचारालय, न्यायालय;—धर्म—(पुं.) राजा का कर्तव्य या धर्म;—धानी—(स्त्री.) वह प्रधान नगर जहाँ किसी देश का राजा या शासक रहता है, शासनकेन्द्र;—धुर—(पुं.) शासन-मार;—नय—(पुं.) राजनीति;—रति—(स्त्री.) वह नीति जिसके अनुसार राजा अपने राज्य का शासन तथा प्रजाकी रक्षा करता है;—नीतिक—(वि.) राजनीति-सम्बन्धी;—नील—(पुं.) मरकत-मणि, पत्ता;—न्य—(पुं.) क्षत्रिय, राजपुत्र, अग्नि, खिरनी का वृक्ष;—०फ—(पुं.) क्षत्रियों का समूह;—०त्व—(पुं.) क्षत्रिय का भाव या धर्म;—०वंधु—(पुं.) क्षत्रिय;—पंखी—(हिं. पुं.) राजहंस;—पंथ—(हिं. पुं.) राजपथ;—पट्ट—(पुं.) चुम्बक पत्थर;—पति—(पुं.) राजाधिराज, सम्राट;—पत्नी—(स्त्री.) राजा की पत्नी;—पथ—(पुं.) वह चौड़ा मार्ग जिस पर हाथी, घोड़े, रथ आदि सुगमता से चल सकते हैं, राजमार्ग;—पद्धति—(स्त्री.) राजनीति;—पाल—(पुं.) वह जो राजा या राज्य की रक्षा करता हो;

-पुत्र-(पुं.) राजा का पुत्र, युवराज, एक वर्णसंकर जाति का नाम, बुध ग्रह, बड़े आम का एक भेद, खिरनी का पेड़; -पुत्रा-(स्त्री.) वह स्त्री जिसका पुत्र राजा हो; -पुत्री-(स्त्री.) राजकन्या, जूही का फूल, मालती; -पुरुष-(पुं.) राज्य का कोई अधिकारी; -पुष्प-(पुं.) कनकचम्पा; -पुष्पी-(स्त्री.) वनमल्लिका, जाती पुष्प; -पूजित-(पुं.) वह जिसका राजा की ओर से सत्कार होता हो; -पूज्य-(वि.) राजा का पूजनीय; -पूत-(हिं.पुं.) राज-पूताना-निवासी क्षत्रिय जाति विशेष; -प्रकृति-(स्त्री.) राजा का स्वभाव; -प्रिय-(पुं.) राजा का प्रिय-पात्र; -प्रिया-(स्त्री.) लाल रंग का एक प्रकार का धान; -फल-(पुं.) एक प्रकार का बड़ा आम; -फला-(स्त्री.) जंबू, जामुन; -बदर-(पुं.) लाल आमला; -बाड़ी-(हिं. स्त्री.) राजमहल; -बाहा-(हिं. पुं.) प्रधान या बड़ी नहर जिससे अनेक छोटी-छोटी नहरें खेतों को सींचने के लिय निकाली जाती हैं; -भक्त-(वि.) राजा का भक्त; -भक्ति-(स्त्री.) राजा या राज्य के प्रति भक्ति; -भट-(पुं.) राजसैनिक; -भद्रक-(पुं.) फरहद का वृक्ष, कुंदरु, नीम; -भय-(पुं.) राजा का भय या डर; -भवन-(पुं.) राजा का प्रासाद; -भांडार-(पुं.) राजा का कोष; -भू-(स्त्री.) राजा की भूमि, राज्य; -भूत-(पुं.) राजा का वेतन-मोगी भृत्य; -भृत्य-(पुं.) राजा का सेवक; -भोग-(पुं.) एक प्रकार का महीन धान, उत्तम खाद्य वस्तुएँ जिनका उपभोग राजा करता है; -भोगी-(वि.) उत्तम भोजन करनेवाला; -भोग्य-(वि.) राजा के भोजन-योग्य; (पुं.) एक प्रकार का धान, चिरांजी; -भोजन-(पुं.) राजा का भोजन; -भ्रातृ-(पुं.) राजा का भाई; -मंडल-(पुं.) किसी बड़े राज्य के आसपास के राज्य; -मंडूक-(पुं.) एक प्रकार का बड़ा मेढक; -मणि-(पुं.) बहुमूल्य रत्न; -मंदिर-(पुं.) राजमवन; -मराल-(पुं.) राजहंस; -महल-(पुं.) राजा का प्रासाद; -माता-(स्त्री.) राजा की माता; -मानुष-(पुं.) वह मनुष्य जो राजा का सेवक हो; -मार्ग-(पुं.) राजपथ, चौड़ी सड़क; -माप-(पुं.) बड़ा उड़द;

-मुनि-(पुं.) राजर्षि; -यक्ष्मा-(पुं.) क्षय रोग; -यज्ञ-(पुं.) राजा का किया हुआ यज्ञ; -यान-(पुं.) वह यान या सवारी जो राजा के लिये हो; -योग-(पुं.) ज्योतिष के अनुसार वह योग जिसके प्रभाव से मनुष्य राजा के समान धनवान् और प्रतापी होता है, योग-शास्त्र में बतलाया हुआ योग के विषय का उपदेश; -योग्य-(वि.) राजा के योग्य; -रंग-(पुं.) रजत, चाँदी; -रथ-(पुं.) राजा का रथ; -राज, -राजेश्वर-(पुं.) अधिराज, राजाओं का राजा, चन्द्रमा, कुबेर; -राजेश्वरी-(स्त्री.) सहाराज्ञी, दस महाविद्याओं में से एक का नाम, भुव-नेश्वरी; -राज्ञी-(स्त्री.) राजा की प्रधान रानी; -रानी-(स्त्री.) राज-महिषी, राज्ञी; -रोग-(पुं.) राज-यक्ष्मा, क्षय रोग; -लक्षण-(पुं.) सामुद्रिक के अनुसार वेलक्षण जो मनुष्य का राजा होना सूचित करते हैं; -लक्ष्मा-(पुं.) राजचिह्न, युधिष्ठिर; -लक्ष्मी-(स्त्री.) राजश्री, राजवैभव, राजा की शोभा; -लिंग-(पुं.) राजचिह्न; -वंत-(हिं. वि.) राजा के कम से संयुक्त; -वंश-(पुं.) राजा का कुल; -वंश्य-(वि.) राजा के वंश में उत्पन्न; -वत्-(अव्य.) राजा के समान; -वर्त्म-(पुं.) राज-पथ, चौड़ी सड़क; -वल्लभ-(वि.) राजप्रिय; -वल्ली-(स्त्री.) करेले की लता; -वसति-(स्त्री.) राज-भवन; -वार-(हिं. पुं.) राजद्वार; -वारुणी-(स्त्री.) एक प्रकार की मदिरा; -वाह-(पुं.) घोड़ा; -वाहन-(पुं.) राजा की सवारी का हाथी; -विजय-(पुं.) संपूर्ण जाति का एक राग; -विद्या-(स्त्री.) राजनीति; -विद्रोह-(पुं.) राजविप्लव; -विद्रोही-(वि., पुं.) राजा से विद्रोह करनेवाला; -विनोद-(पुं.) संगीत के अनुसार एक ताल का नाम; -वीथी-(स्त्री.) चौड़ी सड़क; -वृक्ष-(पुं.) पियाल का पेड़; -वृत्त-(पुं.) राजा का चरित्र; -वैश्व-(पुं.) राजा का भवन; -वेष-(पुं.) राजा का पहिनावा; -शाक-(पुं.) वथुआ का साग; -शालि-(स्त्री.) एक प्रकार का धान; -शासन-(पुं.) राजा का शासन; -शास्त्र-(पुं.) राजनीति शास्त्र; -शुक-(पुं.) लाल रंग का बड़ा तोता, नूरी; -औ-

(स्त्री.) राजा का ऐश्वर्य, राजलक्ष्मी, राजा की शोभा; -स-(पुं.) वह शक्ति जो गुण से उत्पन्न हो, आवेश, क्रोध; -सत्ता-(स्त्री.) राजशक्ति, राज्य की सत्ता; -सत्त्व-(पुं.) राज-सत्ता, राजशक्ति; -सदन, -सद्व-(पुं.) राजा का महल; -सभा-(स्त्री.) वह सभा जिसमें अनेक राजा सम्मिलित हों, राजा के मंत्रियों की सभा; -समाज-(पुं.) राजमण्डली; -सर्प-(पुं.) एक प्रकार का बड़ा सर्प; -सात्-(अव्य.) राजा के अधिकार में; -सारस-(पुं.) मयूर, मोर; -सिंहासन-(पुं.) राजा के बैठने का सिंहासन; -सिक-(वि.) रजो-गुण से उत्पन्न, राजा के योग्य; -सिरी-(हिं.स्त्री.) देख 'राजश्री'; -सी-(स्त्री.) दुर्गा; (वि.) राजा के योग्य, वैभवपूर्ण, मड़-कीला, जिसमें रजोगुण की अधिकता हो; -सुत-(पुं.) राजा का लड़का, राजपुत्र; -सुता-(स्त्री.) राजकन्या, राजा की लड़की; -सूनु-(पुं.) देखें 'राजपुत्र'; -सूप-(पुं.) वह यज्ञ जिसको करने का अधिकार केवल सभ्राट् को होता है; -सेवक-(पुं.) राजा की सेवा करने-वाला भृत्य, राज-कर्मचारी; -सेवा-(स्त्री.) राजा की सेवा, सरकारी नौकरी; -स्कंध-(पुं.) घोड़ा; -स्त्री-(स्त्री.) राजमहिषी, रानी; -स्थान-(पुं.) राजपूताना; -स्व-(पुं.) भूमि आदि का वह कर जो राजा को दिया जाता है; -स्वामी-(पुं.) विष्णु; -हंस-(पुं.) एक प्रकार का हंस जिसको सोनापक्षी भी कहते हैं; -हर्ष्य-(पुं.) राजा का महल। राजर्षि-(सं. पुं.) वह ऋषि जो राज-वंश या क्षत्रिय-कुल का हो। राजांगन-(सं. पुं.) राजमहल का आंगन। राजा-(सं. पुं.) नरपति, अधिपति, स्वामी, प्रेमपात्र, प्रिय व्यक्ति, एक उपाधि जो अंग्रेजी राज्यकाल में धनिकों को दी जाती थी। राजाग्नि-(सं. पुं.) राजा का कोप। राजाज्ञा-(सं. स्त्री.) राजा की आज्ञा। राजादनी-(सं. स्त्री.) खिरनी का पेड़। राजाद्रि-(सं. पुं.) एक प्रकार का अदरक। राजाधिकारी-(सं. पुं.) न्यायालय में बैठकर विचार करनेवाला, न्यायाधीश। राजाधिकृत-(सं. वि.) राजाधिकारी। राजाधिराज-(सं. पुं.) अधिराज, राजाओं का राजा।

राजाधिष्ठान—(सं. पुं.) किसी राजा की राजधानी ।
 राजाध्वन्—(सं.पुं.) राजमार्ग, चौड़ी सड़क
 राजानक—(सं. पुं.) छोटा राजा ।
 राजाभिषेक—(सं. पुं.) राजा का प्रजा से हठपूर्वक कोई काम कराना ।
 राजाभिषेक—(सं. पुं.) राजा का अभिषेक जिसके होने पर वह शासन-भार ग्रहण करता है ।
 राजान्न—(सं.पुं.) उत्तम जाति का आम ।
 राजाम्ल—(सं. पुं.) अमलवेत ।
 राजार्ह—(सं. पुं.) अगर, कपूर, जामुन का वृक्ष ।
 राजार्हण—(सं. पुं.) राजा का दान ।
 राजालुक—(सं. पुं.) मूली, मुरई ।
 राजावर्त—(सं.पुं.) लाजवर्द नामक रत्न ।
 राजासन—(सं. पुं.) राजाओं के बैठने का आसन ।
 राजि, राजी—(सं. स्त्री.) श्रेणी, पंक्ति, लकीर, सर्प, राई ।
 राजिका—(सं.स्त्री.) पंक्ति, लकीर, राई, क्यारी, रेखा; -फल—(पुं.) लाल सरसों ।
 राजित—(सं. वि.) शोभित शोभायुक्त, विराजमान ।
 राजिव—(हिं.पुं.) देखें 'राजीव', कमल ।
 राजी—(अ. वि.) अनुकूल, वात मानने को तैयार, सहमत, रजामंद, आरोग्य, प्रसन्न, खुशी; (स्त्री.) अनुकूलता, सहमति; -खुशी—(हिं.स्त्री.) सुख और आरोग्य; -नामा—(फा.पुं.) स्वीकृति पत्र, सुलहनामा, लिखित स्वीकृति युक्त प्रमाणपत्र ।
 राजीफल—(सं. पुं.) परवल ।
 राजीव—(सं. पुं.) पद्म, कमल, नील कमल, हाथी -गण—(पुं.) एक प्रकार का मात्रिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में अठारह मात्राएँ होती हैं, (इसका दूसरा नाम माला है); -लोचन—(वि.) कमल की तरह आँखोंवाला ।
 राजीविनी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का कमल ।
 राजक—(सं. पुं.) मौर्य शासन-काल का एक कर्मचारी, कायस्थ ।
 राजेन्द्र—(सं. पुं.) राजश्रेष्ठ, राजाओं का राजा, सामन्त ।
 राजेय—(सं. पुं.) परवल ।
 राजेश्वर—(सं. पुं.) राजाओं में श्रेष्ठ ।
 राजेष्ट—(सं. पुं.) लाल रंग का प्याज ।
 राजेष्टा—(सं. स्त्री.) पिंडखजूर ।
 राजोपकरण—(सं.पुं.) राजाओं के लक्षण ।

राजोपजीवी—(सं. पुं.) राजकर्मचारी, जिसकी जीविका राज-सेवा से चलती हो ।
 राजोपसेवा—(सं. स्त्री.) राज-सेवा, सरकारी नौकरी ।
 राजोपसेवी—(सं. स्त्री.) राजकर्मचारी ।
 राजी—(सं. स्त्री.) राजपत्नी, रानी, काँसा, नील का पेड़ ।
 राज्य—(सं. पुं.) राजत्व, राजा का काम, राष्ट्र, जनपद; -कर—(पुं.) राज्य-शासन; -कर्ता—(पुं.) राज्य के प्रशासन-विभाग का कर्मचारी; -कृत—(पुं.) राज्य का शासक; -च्युत—(वि.) राज-सिंहासन से उतारा हुआ; -च्युति—(स्त्री.) राजा का राजगद्दी से उतार दिया जाना; -तंत्र—(पुं.) राज्य की शासन-प्रणाली; -देवी—(स्त्री.) राज-कुल की देवी, रानी; -द्रव्य—(पुं.) राजतिलक की सामग्री; -धर—(पुं.) राज्यपालक; -परिभ्रष्ट—(वि.) राज्यच्युत; -पाल—(पुं.) राजा; -प्रद—(वि.) राज्य देनेवाला; -भंग—(पुं.) राज्य का नाश; -भार—(पुं.) राज्य के शासन का भार; -भक्कर—(वि.) राज्य का नाश करनेवाला; -भोग—(पुं.) राज्य-शासन; -भ्रंश—(पुं.) राज्य का नाश; -भ्रष्ट—(पुं.) देखें 'राज्यच्युत'; -रक्षा—(स्त्री.) राज्य की रक्षा का कार्य; -लक्ष्मी—(स्त्री.) विजय, कीर्ति, राज्यश्री; -लीला—(स्त्री.) राज्य का कार्य; -लोभ—(पुं.) राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा; -वर्धन—(पुं.) राज्य की वृद्धि करनेवाला राजा; -व्यवस्था—(स्त्री.) राज्य-शासन करने का नियम; -व्यवहार—(पुं.) राजकाज; -श्री—(स्त्री.) राज्यलक्ष्मी; -सभा—(स्त्री.) राज्य की व्यवस्थापिका सभा; -सुख—(पुं.) राजा का आनन्द; -स्थ—(वि.) राज्य में स्थित; -स्थापी—(वि.) शासन करनेवाला; -स्थिति—(स्त्री.) राज्य का शासन हाथ में लेना; -हर—(वि.) राज्य का ध्वंस करनेवाला ।
 राज्यांग—(सं.पुं.) राज्य के साधक सात अंग, यथा—स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, बल और सुहृद् ।
 राज्याधिकार—(सं.पुं.) राज्य का अधिकार ।
 राज्याधिपति—(सं.पुं.) राज्य का अधिपति, राजा ।
 राज्याभिविस्त—(सं. वि.) जिसका राज्याभिपक हुआ हो ।
 राज्याभियेक—(सं.पुं.) किसी नये राजा

को राजसिंहासन पर बैठाना, अभिषेक, राजगद्दी ।
 राज्येश्वर—(सं. पुं.) राज्याधिपति ।
 राज्येश्वर्य—(सं. पुं.) राज्यरूप ऐश्वर्य ।
 राज्योपकरण—(सं. पुं.) राजचिह्न ।
 राट्—(सं.पुं.) राजा, सरकार, श्रेष्ठ पुरुष ।
 राटूल—(हिं. पुं.) लोहा-लकड़ी आदि तोलने का बड़ा तराजू ।
 राठ—(सं.पुं.) मदन वृक्ष; (हिं. पुं.) राज्य, राजा ।
 राठवर, राठौर—(हिं.पुं.) मारवाड़वासी राजपूतों की एक शाखा ।
 राड़—(हिं. वि.) नीच, निकम्मा ।
 राढ़—(हिं. स्त्री.) झगड़ा; (वि.) नीच ।
 राढ़ा—(सं.स्त्री.) शोभा, कान्ति; (हिं.पुं.) बंगदेश के उत्तरी भाग का पुराना नाम ।
 राढीय—(हिं.स्त्री.) एक प्रकार की मोटी भास ।
 राणा—(हिं.पुं.) राजा, (इस शब्द का प्रयोग राजपूताना के कुछ राजाओं तथा नेपाल के उच्च सामंतों के लिये होता है) ।
 राणिका—(सं. स्त्री.) घोड़े की लगाम ।
 रातंग—(हिं.पुं.) गृध्र, गीब ।
 रात—(हिं.स्त्री.) रात्रि, रजनी, निशा, संध्या से प्रातःकाल तक का समय ।
 -विन—(अव्य.) सर्वदा ।
 रातना—(हिं. क्रि. अ.) अनुरक्त होना, रंगा जाना ।
 राता—(हिं.वि.) रंगा हुआ, लाल रंग का ।
 रातिचर—(हिं. पुं.) निशाचर, राक्षस ।
 रातिब—(फा.पुं.) पशुओं का चारा, भूसा आदि ।
 रातुल—(सं.पुं.) शूद्धोदन के एक पुत्र का नाम ।
 रातैल—(हिं. पुं.) लाल रंग का एक छोटा कीड़ा ।
 रात्र—(सं.पुं.) रात्रि, रात, निशा, रजनी ।
 रात्रि—(सं. स्त्री.) हल्दी, रजनी, रात; -क—(पुं.) एक प्रकार का विच्छू; -कर—(पुं.) चन्द्रमा, कपूर; -काल—(पुं.) रजनी, रात; -कृत्य—(पुं.) रात में किया जानेवाला कार्य; -चर—(पुं.) राक्षस; -चर्या—(स्त्री.) रात में करने का कर्तव्य; -चारी—(वि.पुं.) रात को विचरनेवाला; -ज—(पुं.) नक्षत्र, तारे आदि; -जागर—(पुं.) कुत्ता, रतजगा; -जागरण—(पुं.) रतजगा; -तिथि—(स्त्री.) शुक्ल पक्ष की रात; -दोष—(पुं.) स्वप्नदोष आदि विकार; -नाशन—(पुं.) सूर्य; -पुष्प—(पुं.)

कमल;—पूजा—(स्त्री.) रात में किया जाने-वाला पूजन;—त्रल—(पुं.) राक्षस; (वि.) रात में बलवान्;—भोजन—(पुं.) रात का खाना;—भट—(पुं.) राक्षस; (वि.) रात में विचरनेवाला;—मणि—(पुं.) चन्द्रमा, निशाकर;—योग—(पुं.) रात्रि का आगमन;—रक्षक—(पुं.) रात का पहरेदार;—राग—(पुं.) अन्धकार, अंधेरा;—वासस्—(पुं.) देखें 'रात्रिराग';—विगम—(पुं.) प्रभात, सबेरा;—वेद—(पुं.) कुक्कुट, मुर्गा;—हास—(पुं.) कुमुदिनी, कुई;—हिडक—(पुं.) राजाओं के अन्तःपुर का रक्षक (पहरेदार) ।
रात्री—(हिं. स्त्री.) रात, हल्दी ।
रात्र्यंध—(सं. वि.) जिसको रात में दिखाई न पड़ता हो ।
रात्र्यंधता—(सं. स्त्री.) रतौंधी का रोग ।
रात्र्यट्—(सं. पुं.) राक्षस; (वि.) रात में घूमनेवाला ।
रात्र—(सं. वि.) पकाया हुआ, ठीक किया हुआ ।
राध—(हिं. पुं.) पीव, मवाद ।
राधन—(सं. पुं.) साधने की क्रिया, सन्तोष, तुष्टि, प्राप्ति, साधन ।
राधना—(हिं. क्रि. स.) सिद्ध करना, पूरा करना, साधना, काम निकालना, आराधना करना, पूजा करना ।
राधा—(सं. स्त्री.) विशाखा नक्षत्र, विजली, वैशाख की पूर्णिमा, प्रीति, श्रीराधिका, (वृषमानु गोप की कन्या), एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तेरह अक्षर होते हैं;—कान्त—(पुं.) श्रीकृष्ण;—कृष्ण—(पुं.) राधा और कृष्ण;—तनय—(पुं.) कर्ण;—मोहन—(पुं.) श्रीकृष्ण;—रमण—(पुं.) श्रीकृष्ण;—वल्लभ—(पुं.) श्रीकृष्ण;—वल्लभी—(हिं. पुं.) वैष्णवों का एक सम्प्रदाय;—विनोद—(पुं.) श्रीकृष्ण;—सुत—(पुं.) कर्ण ।
राधिका—(सं. स्त्री.) श्रीकृष्ण की प्रेमिका, (वृषमानु गोप की कन्या), एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में बाईस मात्राएँ होती हैं ।
राधिकारमण—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण ।
राधेय—(सं. पुं.) कर्ण ।
राधेश, **राधेश्वर**—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण ।
राध्य—(सं. वि.) स्तुति करने योग्य ।
रान्तुरई—(हिं. स्त्री.) कड़ई तरौई ।
राना—(हिं. पुं.) देखें 'राणा'; (क्रि. अ.) अनुरक्त होना;—पति—(पुं.) सूर्य ।
रानी—(हिं. स्त्री.) राजा की पत्नी, राजा

की स्त्री, स्वामिनी, स्त्रियों के लिये आदरसूचक शब्द ।
रानीकाजर—(हिं. पुं.) एक प्रकार का धान ।
रापी—(हिं. स्त्री.) चमारों का चमड़ा स्वच्छ करने का एक औजार ।
राब—(हिं. स्त्री.) आँच पर औटाकर गाढ़ा किया हुआ गन्ने का रस ।
राबड़ी—(हिं. स्त्री.) औटाकर तथा चीनी मिलाकर गाढ़ा किया हुआ दूध, बसौंधी ।
राबना—(हिं. पुं.) खेत में खाद देने की एक विशेष विधि ।
राभस्य—(सं. पुं.) आग्रह, हठ, आनन्द ।
राम—(सं. वि.) सुन्दर, सफेद; (पुं.) परशुराम सूर्यवंशीय राजा दशरथ के पुत्र जो अवतार माने जाते हैं, कृष्ण के बड़े भाई बलराम, अशोक वृक्ष, वरुण, घोड़ा, तीन की संख्या, एक मात्रिक छन्द; (मुहा.)—**राम करना**—अभिवादन या प्रणाम करना, राम नाम जपना;—**राम करके**—किसी न किसी प्रकार से, बड़ी कठिनाई से;—**राम होना**—मर जाना;—**कजरा**—(हिं. पुं.) एक प्रकार का धान;—**कली**—(स्त्री.) एक रागिनी का नाम;—**काँटा**—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बवूल;—**किरि**—(स्त्री.) एक रागिनी का नाम;—**कुमार**—(पुं.) लव और कुश;—**कृष्ण**—(पुं.) बलराम और श्रीकृष्ण;—**केला**—(पुं.) एक प्रकार का बढ़िया केला, एक प्रकार का बढ़िया आम;—**गीती**—(स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में छत्तीस मात्राएँ होती हैं;—**चंद्र**—(पुं.) अयोध्या के राजा इक्ष्वाकुवंशीय महाराज दशरथ के पुत्र जो विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं;—**चर**—(पुं.) बलराम;—**चरित**—(पुं.) दशरथ के पुत्र श्रीराम-चन्द्र की जीवनी;—**चिड़िया**—(हिं. स्त्री.) मछरंशा नामक जल-पक्षी;—**ज**—(पुं.) राम के पुत्र;—**जननी**—(स्त्री.) बलदेवजी की माता रोहिणी, रामचन्द्र की माता कौशल्या;—**जना**—(हिं. पुं.) एक संकर जाति जिसकी कन्याएँ वेश्यावृत्ति करती हैं;—**जनी**—(हिं. स्त्री.) वेश्या, रंडी;—**जमनी**—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बहुत महीन चावल;—**जौ**—(हिं. पुं.) एक प्रकार की जई;—**जौल**—(हिं. पुं.) पैर में पहनने का पाजेव;—**टोड़ी**—(हिं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम;—**ठ**—(पुं.) अखरोट का वृक्ष, हींग;—**ण**—(पुं.) तंदू का वृक्ष;—**तरुणी**—

(स्त्री.) राम की पत्नी सीता;—**तरौई**—(हिं. स्त्री.) भिंडी नाम की तरकारी;—**ता**—(स्त्री.) राम का गुण;—**तारक**—(पुं.) "रां रामाय नमः" मंत्र जिसको राम के उपासक जपते हैं;—**त्व**—(पुं.) देखें 'रामता';—**दल**—(पुं.) श्रीरामचन्द्र की वानरी सेना, ऐसी प्रबल सेना जिसको हराना कठिन हो;—**दाना**—(हिं. पुं.) मरसे या चौराई की जाति का एक पौधा जिसमें बहुत छोटे सफेद दाने लगते हैं;—**दास**—(पुं.) हनुमान्, एक प्रकार का धान, शिवाजी के गुरु जो एक बड़े महात्मा थे;—**दूत**—(पुं.) हनुमानजी;—**दूती**—(स्त्री.) एक प्रकार की तुलसी;—**देव**—(पुं.) रामचन्द्र;—**द्वादशी**—(स्त्री.) जेठ सुदी द्वादशी;—**धनुष**—(पुं.) इन्द्रधनुष;—**धाम**—(पुं.) साकेत लोक जहाँ भगवान् नित्य राम-रूप में विराजमान हैं;—**ननुवा**—(हिं. पुं.) घीया, कद्दू;—**नवमी**—(स्त्री.) चैत्र शुक्ला नवमी जिस दिन रामचन्द्र का जन्म हुआ था;—**नामी**—(हिं. स्त्री.) वह चादर या दुपट्टा जिस पर 'राम राम' छपा रहता है, एक प्रकार का गले का हार जिसके बीच के पान-पत्र पर 'राम' अंकित रहता है;—**नौमी**—(हिं. स्त्री.) देखें 'राम-नवमी';—**पात**—(हिं. पुं.) नील की जाति का एक पौधा;—**फल**—(हिं. पुं.) सीताफल, शरीफा;—**बँटाई**—(हिं. स्त्री.) आधे-आध का विभाग;—**बाँस**—(हिं. पुं.) एक प्रकार का मोटा बाँस जो पालकी के डंडे बनाने के काम में आता है, केवड़े की जाति का एक पौधा जिसकी पत्तियों के रेशे से रस्से बनाये जाते हैं;—**बान**—(हिं. वि.) तुरत प्रभाव दिखानेवाला; (पुं.) नरसल, एक प्रकार की ऊँख;—**बिलास**—(हिं. पुं.) एक प्रकार का धान;—**भक्त**—(पुं.) रामचन्द्र का उपासक; हनुमान्;—**भद्र**—(पुं.) श्रीरामचन्द्र;—**भोग**—(हिं. पुं.) एक प्रकार का चावल, एक प्रकार का आम;—**रक्षा**—(पुं.) रामजी का एक स्तोत्र;—**रज**—(पुं.) एक प्रकार की पीली मिट्टी जिसका तिलक वैष्णव लोग लगाते हैं;—**रत्न**—(हिं. पुं.) चन्द्रमा;—**रस**—(हिं. पुं.) नमक, पीसी हुई भाँग;—**राज्य**—(पुं.) रामचन्द्र का शासन जो प्रजा के लिये अत्यन्त सुखदायक था, आदर्श शासन-व्यवस्था;—**राम**—

(हि. पुं.) प्रणाम, नमस्कार, भेंट; -रौला- (हि. पुं.) कोलाहल; -ल- (वि.) रमल सम्बन्धी; -लवण- (पुं.) सांभर नोन; -लीला- (स्त्री.) रामजी के जीवनकाल के किसी कृत्य का अभिनय या नाटक, एक मात्रिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में चौबीस मात्राएँ होती हैं; -वाण- (पुं.) एक प्रकार की ऊख; (वि.) जो तुरंत उपयोगी सिद्ध हो, तुरत प्रभाव दिखलानेवाला, अमोघ; -जर- (पुं.) एक प्रकार का सरकंडा जो ऊख के खेत में आप से आप उगता है; -शिला- (स्त्री.) गया की एक पहाड़ी जिसको लोग तीर्थ मानते हैं; -श्री- (पुं.) एक राग का नाम; -सडा- (हि. पुं.) एक प्रकार की घास; -सखा- (पुं.) सुग्रीव; -सनेही- (हि. पुं.) एक वैष्णव सम्प्रदाय, रामभक्त; -सुंदर- (हि. पुं.) एक प्रकार की नाव; -सेतु- (पुं.) दक्षिण भारत की अन्तिम सीमा पर रामेश्वर तीर्थ के पास समुद्र में पड़ी हुई चट्टानों का समूह; -सेतक- (पुं.) कटहल; -सेवक- (पुं.) कटहल।

रामा- (सं. स्त्री.) सुन्दर स्त्री, अच्छा गाना गानेवाली स्त्री, हींग, इंगुर, सफेद भटकटैया, आर्या-छन्द का एक भेद, कांतिक बंदी एकादशी, उपजाति-वृत्त का एक भेद, शीतला, गोरौचन, धौकुआर, अशोक, गेरू, तमाखू, सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी, राधा, आठ अक्षरों का वृत्त; -तुलसी- (स्त्री.) एक प्रकार की तुलसी।

रामानंद- (सं. पुं.) एक वैष्णव धर्म प्रचारक साधु (१३५६-१४६७)।
रामानंदी- (सं. वि., पुं.) रामानंद सम्प्रदाय का (अनुयायी)।

रामानुज- (सं. पुं.) रामचन्द्रजी के छोटे भाई लक्ष्मण, वैष्णव सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध आचार्य (१०७३-११९४), (इनका सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत-वेदान्त कहलाता है।)

रामायण- (सं. पुं.) वाल्मीकि ऋषि का संस्कृत में रचा हुआ आदि-काव्य, तुलसीदास का रामायण।

रामायणी- (सं. वि.) रामायण संबंधी; (पुं.) रामायण का पंडित।

रामायन- (हि. पुं.) देखें 'रामायण'।

रामावत- (सं. पुं.) रामानंद का चलाया हुआ एक प्रसिद्ध वैष्णव सम्प्रदाय।

रामिल- (सं. पुं.) रमण, कामदेव, पति।
रामेश्वर- (सं. पुं.) दक्षिण भारत के समुद्रतट पर स्थित एक स्थान जहाँ पर श्रीरामचन्द्र द्वारा स्थापित एक शिव-लिंग है।

राय- (फा. स्त्री.) निर्णय, मत।

राय- (सं. पुं.) छोटा राजा, सरदार, वन्दी, भाट, गन्धर्वों की एक उपाधि; -बहादुर- (पुं.) ब्रिटिश शासनकाल की एक उपाधि; -बेल- (हि. स्त्री.) सुगन्धित फूलों की एक प्रकार की लता; -भोग- (पुं.) देखें 'राजभोग', एक प्रकार का धान; -नुनी- (स्त्री.) लाल नामक पक्षी की मादा, सदिया; -रायान- (पुं.) राजाओं का राजा, बादशाह, सम्राट्; -रासि- (स्त्री.) राजा का कोष; -साहब- (पुं.) राय-बहादुर।

रायज- (अ. वि.) जो व्यवहार में आ रहा हो, प्रचलित, चलनसार।

रायण- (सं. पुं.) क्रन्दन, रोना, चीत्कार।

रायत- (हि. पुं.) उवाला हुआ साग, कुम्हड़ा, लौवा, बूंदिया आदि जिसमें दही, नमक, मिर्च आदि मिलाया रहता है।

रायसा- (हि. पुं.) वह काव्य जिसमें किसी राजा का जीवन-चरित वर्णित हो, रासो।
रायस्काम- (सं. वि.) धन की इच्छा करनेवाला।

रार- (हि. पुं.) झगड़ा।

रारा- (हि. पुं.) ज्योति, प्रकाश।

राल- (हि. स्त्री.) धूना का वृक्ष, वह तरल गोंद जो इस वृक्ष से निकाला जाता है, पतला लसदार थूक, लार।

राली- (हि. स्त्री.) एक प्रकार का बाजरा।

राव- (सं. पुं.) ध्वनि, शब्द; (हि. पुं.) राजा, सरदार, श्रीमान्, धनिक, भाट, राजपूताना के कुछ राजाओं की पदवी; -बहादुर- (पुं.) रायबहादुर; -साहब- (पुं.) रायसाहब।

रावचाव- (हि. पुं.) नाच-गाने का उत्सव, राग-रंग।

रावट- (हि. पुं.) राजभवन।

रावटी- (हि. स्त्री.) कपड़े का वना हुआ एक प्रकार का घर, छोलदारी।

रावण- (सं. पुं.) लंकाधिपति, दशकन्वर, लंकेश, दशानन।

रावणारि- (सं. पुं.) रावण को मारने-वाले श्रीरामचन्द्र।

रावत- (हि. पुं.) छोटा राजा, सरदार,

दूरवीर, सेनापति, बड़ा योद्धा।

रावन- (हि. पुं.) देखें 'रावण'; -गढ़-लंका।

रावना- (हि. क्रि.सं.) रलाना।

रावर- (हि. सर्व.) भवदीय, आपका; (पुं.) अन्तःपुर, रनिवास।

रावरखा- (हि. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी ऊँचा वृक्ष।

रावल- (हि. पुं.) अन्तःपुर, राजा, प्रधान, सरदार, एक प्रकार का आदरसूचक संबोधन का शब्द, राजपूत सामन्तों की एक उपाधि।

राशि- (सं. पुं.) अन्न आदि का समूह, पुंज, समुच्चय, ढेर, राशिचक्र का बारहवाँ भाग, बारह राशियाँ-मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और मीन हैं; -चक्र- (पुं.) ग्रहों के चलने का मार्ग या वृत्त, भचक्र, ज्योतिषचक्र; -नाम- (पुं.) किसी बालक का वह नाम जो नामकरण के समय राशि के अनुसार रखा जाता है; -भोग- (पुं.) उतना समय जितना किसी ग्रह का किसी राशि में रहने में लगता है।

राशी- (अ. वि.) उत्कोच लेनेवाला, घूसखोर।

राशीकरण- (सं. पुं.) इकट्ठा करना।

राशीकृत- (सं. वि.) इकट्ठा किया हुआ।

राष्ट्र- (सं. पुं.) राज्य, देश, प्रजा, वह बाधा जो संपूर्ण देश में व्याप्त हो, वह जनसमूह जो किसी देश या राज्य में बसता हो; -क- (पुं.) राज्य, देश; -कर्षण- (पुं.) राजा का प्रजा पर अत्याचार करना; -काम- (वि.) राज्य पाने की इच्छा करनेवाला; -कूट- (पुं.) दाक्षिणात्य का प्राचीन क्षत्रिय राजवंश;

-गुप्ति- (स्त्री.) राज्य की रक्षा;

-गोप- (पुं.) राष्ट्र की रक्षा करनेवाला;

-तंत्र- (पुं.) राज्य पर शासन करने की प्रणाली; -दा- (वि., स्त्री.) राज्य देने-वाली; -निवास- (पुं.) जनपद, देश;

-पति- (पुं.) किसी राष्ट्र का स्वामी, आधुनिक प्रजातन्त्र शासनप्रणाली में बहुमत से चुना हुआ शासक; -पाल-

(पुं.) राष्ट्रपति; -भंग- (पुं.) राज्य का नाश; -भय- (पुं.) राज्य के ऊपर शत्रु के आक्रमण का भय; -भूत-

(पुं.) राजा, शासक; -भूति- (स्त्री.) राज्य का पालन करने की विधि;

-भूत्य- (पुं.) राज्य का शासन करने-वाला; -भेद- (पुं.) राष्ट्र में विभेद

करने की नीति; -वर्धन-(पुं.) राज्य की वृद्धि; -वासी-(पुं.) राष्ट्र में रहने-वाला; -विप्लव-(पुं.) विद्रोह, बलवा।
 राष्ट्रांतपाल-(सं. पुं.) सीमान्त राज्य।
 राष्ट्रांतपालक-(सं. पुं.) राज्य की सीमा का रक्षक।
 राष्ट्र-(सं. स्त्री.) राजेश्वरी, रानी।
 राष्ट्रिक-(सं. वि.) राष्ट्र-संबंधी।
 राष्ट्रीय-(सं. वि.) राष्ट्र-संबंधी, राष्ट्र का।
 रास-(सं. पुं.) कोलाहल, ध्वनि, गुंज, गोपियों की एक क्रीड़ा जिसमें वे श्रीकृष्ण के साथ घेरा बनाकर नाचती थीं, वह नाटक जिसमें श्रीकृष्ण की इस लीला का अभिनय होता है; (हिं. स्त्री.) ढर, समूह, जोड़, चौपायों का झुंड, सूद, व्याज, ज्योतिष की राशि, गोद, एक प्रकार का अगहनिया धान, एक प्रकार का छन्द, घोड़ की लगाम, बागडोर; (वि.) अनुकूल, ठीक, दुरुस्त।
 रासक-(सं. पुं.) हास्य-रस प्रधान एक नाटक जिसमें केवल एक अंक होता है।
 रासताल-(सं. पुं.) तेरह मात्राओं के एक ताल का नाम।
 रासधारी-(सं. पुं.) वह मंडली या व्यक्ति जो श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा अथवा अन्य लीलाओं का अभिनय करता है।
 रासन-(सं. पुं.) स्वाद लेना।
 रासनशीन-(हिं. वि., पुं.) गोद लिया हुआ, दत्तक।
 रासना-(हिं. पुं.) देखें 'रास्ना'।
 रासनृत्य-(सं. पुं.) गोपियों का नृत्य, नाच का एक भेद।
 रासभ-(सं. पुं.) गर्दभ, वैशाखनन्दन, गदहा, अश्वतर, खच्चर।
 रासभी-(सं. स्त्री.) गधी।
 रासभूमि-(सं. स्त्री.) रासक्रीड़ा करने का स्थान।
 रासमंडल-(सं. पुं.) रासक्रीड़ा करने का स्थान, रासलीला करनेवालों का समूह, वह अभिनय जो रासधारी करते हैं।
 रासमंडली-(सं. स्त्री.) रासधारियों का समाज।
 रासयात्रा-(सं. स्त्री.) कार्तिकी पूर्णिमा को होनेवाला एक उत्सव।
 रासलीला-(सं. स्त्री.) वह क्रीड़ा या नृत्य जो कृष्ण ने गोपियों के साथ किया था, रासधारियों का अभिनय।
 रासविहारी-(सं. पुं.) श्रीकृष्ण।
 रासायनिक-(सं. वि.) रसायन-शास्त्र-संबंधी; (पुं.) रसायन-शास्त्र का जानकार।

रासि-(हिं. स्त्री.) देखें 'रासि'।
 रासी-(हिं. स्त्री.) सज्जी; (वि.) कृत्रिम, बुरा, छोटी नाप का।
 रासु-(हिं. वि.) सरल, सीधा।
 रासरस-(सं. पुं.) श्रृंगार, रासलीला उत्सव, हंसी-दिल्लगी।
 रासेश्वरी-(सं. स्त्री.) राधा।
 रासो-(हिं. पुं.) किसी राजा का प्रथमय जीवन-चरित जिसमें विशेषतः उसके युद्धों, विजयों, वीरता आदि का वर्णन रहता है।
 रास्ता-(फा. पुं.) मार्ग, पथ, प्रथा, चाल; (मुहा.) -देखना- प्रतीक्षा करना; -पकड़ना-चला जाना; -बतलाना-उपाय बतलाना, बहाना करके टालना, झूठ कहकर धोखा देना (व्यंग्य)।
 रास्ना-(सं. स्त्री.) सर्पगन्धा नामक औषधि।
 रास्य-(सं. वि.) रासके योग्य; (पुं.) श्रीकृष्ण।
 राह-(फा. पुं.) रास्ता, मार्ग, पथ, चाल, प्रथा।
 राह-खर्च-(फा. पुं.) यात्रा-व्यय, सफर-खर्च; (मुहा.) देखें 'रास्ता'।
 राह-चलता-(हिं. पुं.) रास्ता चलनेवाला, पथिक, बटोही, अपरिचित व्यक्ति।
 राह-चौरंगी-(हिं. पुं.) चौराहा।
 राहजन-(फा. पुं.) डाकू, लुटेरा।
 राहजनी-(फा. स्त्री.) डकैती, लूट।
 राहत-(अ. स्त्री.) सुख, आनन्द, चैन।
 राहदारी-(फा. स्त्री.) चुंगी, नागरिक कर।
 राहना-(हिं. क्रि. अ., स.) देखें 'रहना', मोटी रेती से रगड़कर चिकना करना।
 राहरोति-(हिं. स्त्री.) जान-पहचान, परिचय।
 राहा-(हिं. पुं.) चक्की के नीचे मिट्टी का चबूतरा।
 राही-(फा. पुं.) यात्री, पथिक।
 राहु-(सं. पुं.) पुराणों के अनुसार नवग्रहों में से एक ग्रह; (हिं. पुं.) रोहू मछली; -ग्रसन-(पुं.) राहु द्वारा ग्रस्त होना; -भेदी-(पुं.) विष्णु; -रत्न-(पुं.) गो-मेदक मणि; -ल-(पुं.) गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम; -संस्पर्श-(पुं.) सूर्य या चन्द्रग्रहण; -सूतक-(पुं.) ग्रहण; -स्पर्श-(पुं.) सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहण; -हनु-(पुं.) विष्णु।
 राहच्छिष्ट-(सं. पुं.) लहसुन।
 राहेल-(सं. पुं.) यहूदियों की एक उपजाति का नाम।
 रिंगन-(हिं. स्त्री.) घुटनों के बल चलना।
 रिंगना-(हिं. क्रि. अ.) रेंगना, घूमना-फिरना, दौड़ना, धीरे-धीरे चलना।

रिगल-(हिं. पुं.) एकप्रकार का पहाड़ी बाँस।
 रिआयत-(अ. स्त्री.) कृपापूर्ण व्यवहार, कमी, छूट, सहूलियत।
 रिआया-(अ. स्त्री.) प्रजा।
 रिक्वैर-(हिं. स्त्री.) उड़द की पीठी तथा अरई के पत्तों से बना हुआ एक खाद्य पदार्थ।
 रिक्शा-(अं. पुं.) प्रसिद्ध दो या तीन पहियावाली सवारी गाड़ी।
 रिक्वाव-(हिं. स्त्री.) देखें 'रकाव'।
 रिक्वाबी-(हिं. स्त्री.) कटोरी।
 रिक्त-(सं. पुं.) वन, जंगल; (वि.) शून्य, खाली, निर्धन, गरीब; -क-(वि.) खाली; -कुंभ-(पुं.) ऐसी बोली जो समझ में न आवे; -कृत-(वि.) खाली किया हुआ; -ता-(स्त्री.) शून्यता; -पाणि-(वि.) निर्धन; -भांड-(पुं.) बुद्धिहीन व्यक्ति; -मति-(वि.) शून्य-चित्त; -हस्त-(वि.) जिसके पास एक पैसा भी न हो, निर्धन।
 रिक्ता-(सं. स्त्री.) चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियाँ।
 रिक्ताक-(सं. पुं.) रविवार को पड़नेवाली रिक्ता तिथि।
 रिक्थ-(सं. पुं.) उत्तराधिकार में मिला हुआ धन या सम्पत्ति; -ग्राह-(वि.) रिक्थ पानेवाला; -जात-(पुं.) मृत व्यक्ति की सब सम्पत्ति; -भागी-(वि.) रिक्थग्राह; -हार-(पुं.) रिक्थभागी; -हार, -हारी-(पुं.) वह जो रिक्थ का अधिकारी हो।
 रिक्थी-(सं. वि.) जिसको उत्तराधिकार में धन या सम्पत्ति मिले।
 रिक्त-(हिं. पुं.) देखें 'ऋक्ष', रीछ, मालू।
 रिक्ता-(सं. स्त्री.) लीख।
 रिक्ता-(हिं. स्त्री.) देखें 'ऋचा'।
 रिक्छ-(हिं. पुं.) मालू।
 रिजु-(हिं. वि.) देखें 'ऋजु'।
 रिक्तवार, रिक्तवार, रिक्तवैया-(हिं. पुं.) किसी बात पर प्रसन्न होनेवाला, अनुराग करनेवाला, प्रेमी, गुणग्राहक।
 रिक्ताना-(हिं. क्रि. स.) अपने ऊपर किसी को प्रसन्न कर लेना, लुमाना, किसी को अपना प्रेमी बना लेना।
 रिक्तायल-(हिं. वि.) रीझनेवाला।
 रिक्ताव-(हिं. पुं.) किसी के ऊपर प्रसन्न होने का भाव।
 रिक्तावना-(हिं. क्रि. स.) देखें 'रिक्ताना'।
 रिक्त, रिक्तु-(हिं. स्त्री.) देखें 'ऋत्तु'।
 रिक्तवना-(हिं. क्रि. स.) खाली करना।
 रिक्तुवंती-(हिं. स्त्री.) रजस्वला स्त्री।

रिद्ध—(सं. वि.) पका या रींघा हुआ ।
 रिद्धि—(हि. स्त्री.) देखें 'ऋद्धि' ।
 रिघम—(सं. पुं.) कामदेव, वसन्त ।
 रिन—(हि. पुं.) देखें 'ऋण' ।
 रिनबंधी—(हि. वि.) ऋणी ।
 रिनिआँ (याँ)—(हि. वि.) ऋणी ।
 रिनी—(हि. वि.) देखें 'ऋणी' ।
 रिप—(हि. पुं.) रिपु, शत्रु ।
 रिपु—(सं. पुं.) शत्रु, वैरी; -घाती—
 (वि.) शत्रुओं का नाश करनेवाला;
 -ता—(स्त्री.) शत्रुता, वैमनस्य ।
 रिमक्षिम—(हि. स्त्री.) जल की छोटी-
 छोटी बूंदों की वर्षा, फूही ।
 रिमहर—(हि. पुं.) शत्रु ।
 रिमिका—(हि. स्त्री.) काली मिर्च की छता ।
 रियासत—(अ. स्त्री.) राज्य, रईस होने
 का भाव, अमीरी, विभव ।
 रिरंसा—(सं. स्त्री.) रमण करने की इच्छा ।
 रिरसु—(सं. वि.) रमण की इच्छा करनेवाला
 रिर—(हि. स्त्री.) हूठ, गिड़गिड़ाना ।
 रिरक्षा—(सं. स्त्री.) रक्षा करने की इच्छा ।
 रिरना—(हि. क्रि. अ.) दीनता प्रकट करना ।
 रिरहा—(हि. वि.) गिड़गिड़ाकर मिक्षा
 मांगनवाला ।
 रिरी—(सं. स्त्री.) पित्तल, पीतल ।
 रिवाज—(अ. पुं.) प्रथा, चाल, रीति ।
 रिश्ता—(फा. पुं.) संबंध, नाता ।
 रिश्तेदार—(फा. पुं.) संबंधी, नातेदार ।
 रिश्तेदारी—(फा. स्त्री.) रिश्तेदार की
 स्थिति, भाव आदि ।
 रिश्वत—(फा. पुं.) घूस, उत्कोच; -खोर—
 (पुं.) घूस लेनेवाला; -खोरी—(स्त्री.)
 घूसखोरी, उत्कोच-ग्रहण ।
 रिषभ—(हि. पुं.) देखें 'ऋषभ' ।
 रिषीक—(सं. पुं.) शंकर, शिव, शम्भु, महादेव ।
 रिषीकार—(सं. पुं.) क्षेम, कल्याण ।
 रिष्ट—(सं. वि.) प्रसन्न, हृष्ट-पुष्ट ।
 रिष्टि—(सं. स्त्री.) खंडग, तलवार,
 अशुभ, अमंगल ।
 रिष्यमूक—(हि. पुं.) देखें 'ऋष्यमूक' ।
 रिस—(हि. स्त्री.) क्रोध, रोष; (क्रि. प्र.)
 -मारना—क्रोध को रोकना ।
 रिसना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'रसना',
 छनकर बाहर टपकना ।
 रिसवाना—(हि. क्रि. स.) क्रोध करना ।
 रिसहा—(हि. वि.) क्रोधी ।
 रिसहाया—(हि. वि.) क्रुद्ध ।
 रिसान—(हि. पुं.) ताने के सूतों को फैला-
 कर स्वच्छ करने का काम ।
 रिसाना—(हि. क्रि. स.) किसी पर क्रुद्ध

होना, क्रोधित करना ।
 रिसि—(हि. स्त्री.) देखें 'रिस', क्रोध ।
 रिसिआना, रिसियाना—(हि. क्रि. अ. स.)
 कुपित होना; क्रोध करना ।
 रिसिक—(हि. स्त्री.) खड्ग, तलवार ।
 रिसोहा—(हि. वि.) क्रोध से भरा हुआ ।
 रिहा—(फा. वि.) बंधन, कैद आदि से
 मुक्त; -ई—(स्त्री.) छुटकारा ।
 रिहाण—(सं. पुं.) सेवा करना ।
 रिहायस—(सं. पुं.) चोर, ठग ।
 रीधना—(हि. क्रि. स.) खाद्य पदार्थ को
 उवालना, तलना या पकाना ।
 री—(सं. स्त्री.) गति, शब्द, वध, हत्या;
 (हि. अव्य.) सखियों के लिये संबोधन
 का शब्द, अरी, एरी ।
 रीगन—(हि. पुं.) एक प्रकार का धान जो
 कुआर में तैयार होता है ।
 रीछ—(हि. पुं.) भालू; -राज—(पुं.)
 जामवन्त ।
 रीझ—(हि. स्त्री.) रीझने की क्रिया या भाव,
 किसी बात पर प्रसन्न होना, किसी के
 गुण, रूप आदि पर मोहित होने का भाव ।
 रीझना—(हि. क्रि. अ.) प्रसन्न होना,
 मोहित या मुग्ध होना ।
 रीठ—(हि. स्त्री.) खड्ग, तलवार, युद्ध;
 (वि.) अशुभ ।
 रीठा—(हि. पुं.) एक वृक्ष, इसका बेर के
 बराबर फल, (इसे सुखा लिया जाता है
 और इसे पानी में भिगोकर मलने से
 इससे फेन निकलता है) इससे कपड़े
 स्वच्छ किये जाते हैं ।
 रीठी—(हि. स्त्री.) छोटा रीठा ।
 रीडर—(अं. पुं.) विश्वविद्यालय में
 व्याख्याताओं का एक वर्ग ।
 रीढ़—(हि. स्त्री.) पीठ के बीचोबीच की
 लंबी हड्डी जो गरदन से कमर तक
 जाती है जिसमें पसलियाँ मिली होती
 हैं, भेदण्ड, पृष्ठवंश ।
 रीढा—(सं. स्त्री.) अवज्ञा, अवमान ।
 रीत—(हि. स्त्री.) देखें 'रीति' ।
 रीतना—(हि. क्रि. अ.) रित्त होना,
 खाली होना ।
 रीता—(हि. वि.) जिसके भीतर कुछ न
 हो, खाली ।
 रीति—(सं. स्त्री.) कोई काम करने का
 ढंग, परिपाटी, नियम, प्रकार, तरह,
 ढब, गति, स्वभाव, प्रकृति, स्तुति, प्रशंसा
 काव्य की आत्मा अर्थात् वाक्य की ऐसी
 रचना जिसमें ओज, प्रसाद तथा मावुयं
 गुण हो ।

रीतिका—(सं. स्त्री.) जस्ते का भस्म ।
 रीस—(हि. स्त्री.) स्वर्वा, ईर्ष्या रिस ।
 रीसना—(हि. क्रि. अ.) क्रुद्ध होना ।
 रीसा—(हि. स्त्री.) वनकटकोरा नाम की
 झाड़ी ।
 रंज—(हि. पुं.) एक प्रकार का वाजा ।
 रंड—(सं. पुं.) कवच, वह जिसका हाथ-
 पैर छिन्न हो ।
 रंडिका—(सं. स्त्री.) युद्ध-भूमि, ड्योढ़ी,
 बहुतायत ।
 रंदवाना—(हि. क्रि. स.) पैर से कुचलवाना ।
 रंधती—(हि. स्त्री.) देखें 'अरंधती' ।
 रंधना—(हि. क्रि. अ.) माग न मिलने के
 कारण अटकना, उलझना, रुकना, फँस
 जाना, किसी कार्य में लीन हो जाना ।
 रु—(हि. अव्य.) देखें 'अरु', और ।
 रुआली—(हि. स्त्री.) रुई की पूनी ।
 रुआ—(हि. पुं.) देखें 'रुआँ', रोम;
 -घास—(स्त्री.) एक प्रकार की सुगंधित
 घास ।
 रुआब—(अ. पुं.) घाक, भय ।
 रुई—(हि. स्त्री.) कपास ।
 रुईदार—(हि. वि.) रुई से मरा हुआ ।
 रुकना—(हि. क्रि. अ.) आगे न बढ़ सकना,
 ठहर जाना, किसी कार्य का बीच में ही
 बंद हो जाना, आगा-पीछा करना,
 अटकना किसी क्रम का आगे न चलना ।
 रुकमंजनी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का
 पौधा जो बगीचों में सजावट के लिये
 लगाया जाता है ।
 रुकमंगद—(हि. पुं.) देखें 'रुक्मंगद' ।
 रुकमिनी—(हि. स्त्री.) देखें 'रुक्मिणी' ।
 रुकवाना—(हि. क्रि. सं.) दूसरे को रोकने
 में प्रवृत्त करना ।
 रुकाव, रुकावट—(हि. पुं, स्त्री.) रुकने का भाव ।
 रुकुम—(हि. पुं.) देखें 'रुक्म' ।
 रुकुमी—(हि. पुं.) देखें 'रुक्मी' ।
 रुक्का—(अ. पुं.) परन्धी, रसीद, पुरजा ।
 रुक्ख—(हि. पुं.) देखें 'वृक्ष', पेड़ ।
 रुक्म—(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना, धतूरा,
 लोहा, नागकेसर, रुक्मिणी के एक भाई
 का नाम; (वि.) दीप्तिमान्; -कारक—
 (पुं.) स्वर्णकार, सोनार; -मय—
 (वि.) सोने का बना हुआ; -माली—
 (पुं.) मीप्मक के एक पुत्र का नाम;
 -रथ—(पुं.) सोने का बना हुआ रथ;
 -वत्—(वि.) सुवर्णयुक्त; -वती—
 (स्त्री.) एक वर्णयुक्त का नाम जिसको
 पद्यवती या चपकमाला भी कहते हैं;
 -बाहन—(पुं.) द्रोणाचार्य; -सेन—

(पुं.) रुक्मिणी का छोटा भाई; -स्तेय-
(पुं.) सोना चुरानेवाला ।
रुक्मिणी-(सं. स्त्री.) श्रीकृष्ण की बड़ी
पटरानी जो विदर्भ के राजा भीष्मक की
पुत्री थी ।
रुक्मिन्-(सं. पुं.) विदर्भ देश के राजा
भीष्मक का बड़ा पुत्र ।
रुक्मिणी-(सं. वि.) जिसमें चिकनाहट न हो,
विना प्रम का, रुखा, नीरस, सूखा;
(पुं.) नरकट; -ता-(स्त्री.) खाई,
रुखापन ।
रुक्मिणी-(फा. पुं.) कपोल, गाल, चेहरा,
आकृति, दिशा ।
रुक्मिणी-(अ. स्त्री.) विदाई अवकाश,
काम से छुट्टी ।
रुक्मिणी-(अ. वि.) जिसको छुट्टी मिली
हो; (स्त्री.) विदाई ।
रुक्मिणी-(हि. स्त्री.) रुखा होने का भाव,
रुखापन, शुष्कता, व्यवहार की कठो-
रता, शील का परित्याग ।
रुक्मिणी-(हि. क्रि. अ.) रुखा होना, सूखना ।
रुक्मिणी-(हि. स्त्री.) बड़ियों का लकड़ी
छीलने आदि का एक धारदार अस्त्र ।
रुक्मिणी-(हि. स्त्री.) रुखापन,
रुखाई ।
रुक्मिणी-(हि. स्त्री.) वह नायिका जो
रोप या क्रोध से पूर्ण हो ।
रुक्मिणी-(हि. स्त्री.) बहुत छोटा पौधा ।
रुक्मिणी-(हि. वि.) रुखाई लिये हुए ।
रुक्मिणी-(सं. वि.) पीड़ायुक्त ।
रुक्मिणी-(सं. पुं.) रोग की औषधि ।
रुक्मिणी-(सं. वि.) रोगग्रस्त, झुका हुआ,
विगड़ा हुआ; -ता-(स्त्री.) रोगी होने
का भाव ।
रुक्मिणी-(सं. वि.) उज्वल; (हि. स्त्री.)
देखें 'रुचि' ।
रुक्मिणी-(सं. पुं.) सज्जीखार, घोड़े का
साज, लवण, नमक, दाँत, कबूतर,
विजोरा नीव ।
रुक्मिणी-(हि. क्रि. स.) अनुकूल होना,
पसंद आना ।
रुक्मिणी-(सं. स्त्री.) दीप्ति, प्रकाश, गोभा,
इच्छा, पक्षियों का बोलना ।
रुक्मिणी-(सं. स्त्री.) अनुराग, प्रेम, आसक्ति,
प्रवृत्ति, किरण, शोभा, छवि, खाने
की इच्छा, सुन्दरता, मूख, स्वाद,
एक अपरा का नाम; -कर-(वि.)
गोभा के अनुकूल, योग्य; अच्छा-
लगनेवाला; -कारक-(वि.) अच्छे
रुक्मिणी, खादिष्ट; -कारी-(वि.)

अमिलपित, रुचिकर, मनोहर; -ता-
(स्त्री.) अनुराग, प्रेम, सुन्दरता, अति-
जगतीवृत्त का एक भेद; -दा-(स्त्री.)
कुंठरु; -फल-(पुं.) नासपाती; -मती-
(स्त्री.) उग्रसेन की रानी का नाम,
रुचिभाव; (वि. स्त्री.) शोभापूर्ण;
-र-(पुं.) कुंकुम, केशर, लवंग, चाँदी;
(वि.) सुन्दर, अच्छा, मीठा; -वदन-
(वि.) सुन्दर मुखवाला; -वृत्ति-(पुं.)
अस्त्र के प्रहार का निवारण; -रा-
(स्त्री.) एक वृत्त का नाम, कुंकुम,
केशर, लवंग, मूली; -०ई-(हि. स्त्री.)
मनोहरता, सुन्दरता; -वर्धक-(वि.)
रुचि उत्पन्न करनेवाला, मूख बढ़ाने-
वाला; -ष्य-(वि.) चाहा हुआ, इच्छा
किया हुआ ।
रुक्मिणी-(हि. स्त्री.) देखें 'रुचि'
रुक्मिणी-(हि. वि.) देखें 'रुक्मिणी', रुखा ।
रुक्मिणी-(सं. वि.) रुचिकर, सुन्दर ।
रुक्मिणी-(सं. पुं.) सूजन ।
रुक्मिणी-(सं. पुं.) क्षत, घाव, वेदना, रोग,
कण्ट, ढोलक के समान एक प्रकार का
प्राचीन वाजा; -ग्रस्त-(वि.) रोगग्रस्त;
-स्कर-(वि.) पीड़ा देनेवाला ।
रुक्मिणी-(सं. स्त्री.) रोग, पीड़ा; -कर-(वि.)
रोग उत्पन्न करनेवाला; -पह-(वि.)
पीड़ा या रोग को दूर करनेवाला;
-वी-(वि.) पीड़ायुक्त, पीड़ित;
-सह-(वि.) पीड़ा सहन करनेवाला ।
रुक्मिणी-(हि. वि.) अस्वस्थ, रोगी ।
रुक्मिणी-(हि. क्रि. अ.) घाव आदि का
पूजना, देखें 'उलझना' ।
रुक्मिणी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी
चिड़िया ।
रुक्मिणी-(हि. पुं.) क्रोध, रोष ।
रुक्मिणी-(हि. क्रि. अ.) क्रुद्ध होना ।
रुक्मिणी-(हि. क्रि. स.) रुठने में प्रवृत्त करना ।
रुक्मिणी-(सं. वि.) शब्द करता हुआ,
झनकारता हुआ ।
रुक्मिणी-(सं. पुं.) पक्षियों का कलरव,
शब्द, ध्वनि; (हि. स्त्री.) देखें 'ऋतु' ।
रुक्मिणी-(सं. पुं.) क्रन्दन, रोने की क्रिया ।
रुक्मिणी-(हि. पुं.) देखें 'रुद्राक्ष' ।
रुक्मिणी-(सं. वि.) रोता हुआ ।
रुक्मिणी-(सं. वि.) रोका हुआ, वेष्टित, घिरा
हुआ, फँसा हुआ, मूँदा हुआ, जिसकी
गति रोक दी गई हो; -कंठ-(वि.) जिसका
गला भर आया हो, जो बोल न सकता हो ।
रुक्मिणी-(सं. पुं.) एक प्रकार के गणदेवता जो
संख्या में ग्यारह हैं, यथा-अजैकपाद,

अहिब्रह्म, पिनाकी, अपराजित, त्र्यम्बक,
महेश्वर, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवततथा
बहुरूप; रौद्र रस, शिव का एक रूप;
(वि.) भयंकर, डरावना; -क-(पुं.)
बड़ा अगस्त का वृक्ष; -कमल-(पुं.)
रुद्राक्ष; -काली-(स्त्री.) दुर्गा की
एक मूर्ति का नाम, उमा का नामान्तर;
-कोटि-(पुं.) एक प्राचीन तीर्थ का
नाम; -गण-(पुं.) पुराण के अनुसार
शिव के परिषद; -गर्भ-(पुं.)
अग्नि; -ज-(पुं.) पारद, पारा;
-जटा-(स्त्री.) तीन-चार हाथ ऊँचा
एक पौधा; -ताल-(पुं.) मृदंग का
एक ताल; -तेज-(पुं.) कार्ति-
केय; -पति-(पुं.) शिव, महादेव;
-पत्नी-(स्त्री.) दुर्गा; -प्रिया-(स्त्री.)
पार्वती; -भू-(स्त्री.) श्मशान, मरघट;
-भूमि-(स्त्री.) मरघट; -भैरवी-
(स्त्री.) दुर्गा की एक मूर्ति का नाम;
-माल्य-(पुं.) बेल का पेड़; -यामल-
(पुं.) तान्त्रिकों का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ;
-रैता-(पुं.) पारद, पारा; -रोदन-
(पुं.) सोना; -रोमा-(स्त्री.) कार्ति-
केय की एक मातृका का नाम; -लता-
(स्त्री.) रुद्रजटा; -लोक-(पुं.)
शिवलोक; -वंती-(स्त्री.) एक प्रसिद्ध
वनौषधि; -वदन-(पुं.) महादेव के
पाँच मुख, पाँच की संख्या; -विशति-
(स्त्री.) प्रभव आदि साठ संवत्सरों
में से अन्तिम वर्षों का समूह; -वीणा-
(स्त्री.) प्राचीन काल की एक प्रकार
की वीणा; -सुंदरी-(स्त्री.) देवी की
एक मूर्ति; -हृदय-(पुं.) एक प्राचीन
उपनिषद् ।
रुक्मिणी-(सं. स्त्री.) रुद्रजटा नामक पौधा ।
रुक्मिणी-(सं. पुं.) श्मशान, मरघट ।
रुक्मिणी-(सं. पुं.) एक बड़ा वृक्ष, इसका
गोल फल जिसकी माला बनाकर शैव
भक्त पहनते और जप के समय व्यवहार
में लाते हैं ।
रुक्मिणी-(सं. स्त्री.) रुद्र की पत्नी, पार्वती,
रुद्रजटा नाम की लता ।
रुक्मिणी-(सं. पुं.) कामदेव ।
रुक्मिणी-(सं. वि.) आनन्ददायक, बड़ाई
करनेवाला ।
रुक्मिणी-(सं. स्त्री.) वेद के अधमर्षण सूक्त
की बारह आवृत्तियाँ ।
रुक्मिणी-(सं. पुं.) रक्त, शोणित; -पायी-
(पुं.) लोह पीनेवाला राक्षस;
-पित्त-(पुं.) नकसीर रोग; -प्रदिग्ध-

का बड़ा अभिमान हो; -ग्रह-(वि.) जिसका रंग-रूप सुन्दर हो; -घनाक्षरी-(स्त्री.) दण्डक छन्द का एक मद जिसके प्रत्येक चरण में बत्तीस अक्षर होते हैं; -घात-(पुं.) रूप या आकृति विगाड़ने का अपराध; -चतुर्दशी-(स्त्री.) कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी; -ज-(वि.) रूप से उत्पन्न; -जीवनी-(स्त्री.) वेश्या, रंडी; -तत्त्व-(पुं.) शील, स्वभाव; -तम-(वि.) बहुत सुन्दर; -ता-(स्त्री.) सुन्दरता; -दर्शक-(वि.) प्राचीन काल का मुद्राओं की परीक्षा करनेवाला; -धर-(वि.) सुन्दर; -धारी-(वि.) बहुरूपिया, रूप धारण करनेवाला; -पति-(पुं.) विश्वकर्मा; -भेद-(पुं.) भिन्न रूप; -मंजरी-(स्त्री.) राधिका की एक सखी का नाम, एक प्रकार का फूल; -मनी-(हिं.वि.स्त्री.) रूपवती, सुन्दर; -मय-(वि.) बहुत सुन्दर; -मान्-(वि.) देखें 'रूपवान्'; -माला-(स्त्री.) एक मात्रिक छन्द का नाम, (इसका दूसरा नाम मदन है); -माली-(स्त्री.) एक छन्द का नाम जिसके प्रत्येक चरण में तीन मगण और नौ दीर्घ वर्ण होते हैं; -यौवन-(पुं.) रूप और युवावस्था; -रूपक-(पुं.) रूपक बलंकार का एक भेद; -बंत(हिं. वि.), -वान्-(वि.) रूपमय, सुन्दर; -वती-(स्त्री.) एक छन्द का नाम जिसको गोरी भी कहते हैं, चंपकमाला वृत्त का नाम, रूपमवती; (वि.स्त्री.) सुन्दरी; -विरयंथ-(पुं.) रूप का परिवर्तन; -श्री-(स्त्री.) सम्पूर्ण जाति की एक संकर रागिनी; -संपद-(स्त्री.) उत्तम रूप, सुन्दरता; -समृद्ध-(वि.) रूपशाली, रूपवान्; -समृद्धि-(स्त्री.) सुन्दरता, खूबसूरती; -सौ-(वि.स्त्री.) सुन्दर, मनोहर; -स्थ-(वि.) रूपवान्, सुन्दर; -हानि-(स्त्री.) रूप का नाश।

रूपकातिशयोक्ति-(सं.स्त्री.) एक प्रकार की अतिशयोक्ति जिसमें केवल उपमान का उल्लेख करके उपमेय आदि का अर्थ समझाया जाता है।

रूपा-(हिं. पुं.) चांदी, घटिया चांदी जिसमें कुछ मिलावट हो, सफेद रंग का घोड़ा, सफेद रंग का बैल।

रूपाजीवा-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी।

रूपाजिवीय-(सं. पुं.) इन्द्रियों द्वारा प्राप्त वस्तु का ज्ञान।

रूपावली-(सं.स्त्री.) शब्द की विभक्तियों का वर्णन।

रूपाशय-(सं. पुं.) सुन्दर मनुष्य।

रूपास्त्र-(सं. पुं.) कन्दर्प, कामदेव।

रूपित-(सं.पुं.) एक प्रकार का उपन्यास जिसमें ज्ञान, वैराग्य आदि पात्र बनाये जाते हैं।

रूपी-(हिं. वि.) रूपयुक्त, रूपवाला, सुन्दर, तुल्य, सदृश।

रूपोपजीवनी-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी।

रूपोपजीवी-(हिं. वि.) बहुरूपिया।

रूप्य-(सं. वि.) सुन्दर; (पुं.) रूपया।

रूप्यक-(सं. पुं.) रूपया।

रूप्याध्यक्ष-(सं. पुं.) टकसाल का प्रधान अधिकारी।

रूमना-(हिं. क्रि. अ.) झूलना, झूमना।

रूमाल-(फा.पुं.) कपड़े का वह छोटा-सा चौकोर टुकड़ा जो हाथ-मुंह पोंछने के काम आता है, रमाल।

रुर-(सं. वि.) उत्तप्त, जला हुआ।

रुरना-(हिं. क्रि. अ.) हल्ला करना, चिल्लाना, कोलाहल करना।

रुरा-(हिं.वि.) श्रुण्ठ, सुन्दर, मनोहर।

रुलना-(हिं. क्रि. स.) दबा देना।

रुलर-(अं.पुं.) सीधी रेखाएँ या सतह खींचनेवाला बेलन के आकार का डंडा।

रुपित-(सं. वि.) धूल से ढका हुआ।

रुसना-(हिं.क्रि.अ.) रुठना, क्रुद्ध होना।

रुसा-(हिं. पुं.) अड़ूसा, एक सुगन्धित घास का नाम।

रुसी-(हिं.वि.) रूस देश का रहनेवाला, रूस-संबंधी; (स्त्री.) रूस देश की भाषा, सिर पर जमनेवाला मूसी के समान छिलका।

रुह-(अ. स्त्री.) आत्मा, जीवात्मा, सत्त्व, सार।

रुहड़-(हिं. पुं.) पुरानी रुई जो एक बार तीक्ष्ण आदि में मरी जा चुकी हो।

रुहना-(हिं. क्रि. स.) आवेष्टित करना, घेरना।

रुही-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का वृक्ष।

रुकना-(हिं. क्रि. अ.) गदहे का बोलना, मही तरह से गाना।

रुगटा-(हिं. पुं.) गदहे का वच्चा।

रुगता-(हिं. क्रि. अ.) साँप, कीड़े या चींटी का चलना, धीरे-धीरे चलना।

रुगनी-(हिं. स्त्री.) भटकटैया।

रुट-(हिं. पुं.) नाक का मल, नकटी।

रुटा-(हिं. पुं.) लिसोड़े का फल।

रुड़-(हिं. पुं.) एक पौधा जिसके बीज का

तेल गाढ़ा और रेचक होता है।

रेंडमेवा-(हिं. पुं.) पपीता।

रेडा-(हिं. पुं.) एक प्रकार का धान।

रेंडी-(हिं. स्त्री.) रड़ के बीज।

रेंदी-(हिं. स्त्री.) ककड़ी या खरबूजे का छोटा फल।

रेंरें-(हिं. पुं.) बच्चों के रोने का शब्द।

रे-(सं.अव्य.) एक संबोधन-शब्द जिससे आदर का अभाव सूचित होता है; (पुं.) संगीत में ऋषभ स्वर।

रेजता-(हिं. पुं.) व्यजन, बना, पंखा।

रेजती-(हिं. स्त्री.) देख 'रेवती'।

रेक-(सं. पुं.) भक, मेढक।

रेका-(सं. पुं.) शंका, सन्देह।

रेकार्ड-(अं. पुं.) ग्रामोफोन वाजे पर बजनेवाला लाख का बना चिह्नित तावा।

रेकान-(हिं.पुं.) वह भूमि जो नदी के पानी की पहुँच के बाहर हो।

रेख-(हिं. स्त्री.) रेखा, लकीर, चिह्न, गिनती, हिसाब, नई निकलती हुई मूँछें;

(मुहा.) -खींचना-लकीर खींचना; -भौंगना-मूँछ निकलती हुई जान पड़ना।

रेखना-(हिं. क्रि. अ.) लकीर खींचना, खरींचना, छेदना।

रेखांश-(सं. पुं.) याम्योत्तर का एक अंश।

रेखा-(सं. स्त्री.) छद्म, कपट, उल्लेख, लकीर, गणना, गिनती, आकृति, आकार; -गणित-(पुं.) गणित का वह विभाग जिसमें रेखाओं द्वारा कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं; -भूमि

-(स्त्री.) लंका और सुमेरु के बीच का देश।

रेखाकार-(सं. वि.) रेखा-जैसा, रेखा के सदृश।

रेखित-(सं. वि.) जिस पर रेखा पड़ी हो, लकीर खींचा हुआ, फटा हुआ।

रेगिस्तान-(फा.पुं.) मरुभूमि, मरुदेश।

रेगिस्तानी-(फा. वि.) रेगिस्तान का, रेगिस्तान से संबद्ध।

रेच-(हिं. पुं.) ऐंठन, दोष।

रेचक-(सं. पुं.) प्राणायाम में खींची हुई साँस को पुनः धीरे धीरे बाहर निकालने की क्रिया; (वि.) कोष्ठ-शुद्धि करनेवाला, जिसके खाने से शौच आवे।

रेचन-(सं. पुं.) जुलाब, कोष्ठ शुद्धि।

रेचना-(हिं.क्रि.स.) अधोवायु या मल को बाहर निकालना।

रेचनीय-(सं. वि.) शौच लानेवाला।

रेचित-(सं.वि.) रेचन किया हुआ।

रेजगारी, रेजगी-(फा. स्त्री.) अल्प

मूल्य के सिक्के, खुदरा ।
 रेजू—(फा.पुं.) एक प्रकार का रेशा जो कुंची बनाने के काम में लाया जाता है ।
 रेडियम—(अं.पुं.) एक प्रसिद्ध दुर्लभ तथा बहुमूल्य धातु जिससे सदा विजली का किरणों विकिरित होती रहती है ।
 रेणु—(सं.पुं.) धूल, बालू, कणिका, अत्यन्त लघु परिमाण; (स्त्री.) विश्वामित्र की एक पत्नी का नाम, पृथ्वी, सँभालू का बीज; -का—(स्त्री.) पृथ्वी, रज, धूल, बालू, परशुराम की माता का नाम जो विदर्भराज की कन्या और जमदग्नि की स्त्री थी; -सुत—(पुं.) परशुराम; -गर्भ—(पुं.) ज्योतिषोक्त होरा-निर्णायक यन्त्र; -त्व—(पुं.) रेणु का भाव या धर्म; -पदवी—(स्त्री.) धूल से भरा हुआ मार्ग; -मत्—(पुं.) रेणुका के गर्भ से उत्पन्न विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम; -लपित—(पुं.) गर्दभ, गदहा; -वास—(पुं.) भ्रमर, मौरा; -सार—(पुं.) कर्पूर, कपूर ।
 रेत—(सं. पुं.) शुक, वीर्य, जल, पारा, लोहा; (हिं.पुं.) रतन का एक अस्त्र; (स्त्री.) बालू, मरुस्थल ।
 रेतज—(सं. पुं.) पुत्र, लड़का ।
 रेतन—(सं. पुं.) शुक, वीर्य ।
 रेतना—(हिं. क्रि. स.) रेतनी से किसी वस्तु को रगड़कर उससे महीन कण गिराना, किसी अस्त्र की धार रगड़ना ।
 रेतल—(हिं.पुं.) भूरे रंग का एक पक्षी ।
 रेतला—(हिं. वि.) रेतली ।
 रेतस्—(सं. पुं.) शुक, वीर्य ।
 रेता—(हिं. स्त्री.) बालू ।
 रेतिया—(हिं. पुं.) रेतनेवाला ।
 रेतनी—(हिं. स्त्री.) (लोहा, लकड़ी आदि) रेतने का लोहे का एक अस्त्र, नदी या समुद्र के किनारे की बलुई भूमि ।
 रेतनीला—(हिं. वि.) बालुकामय, बलुआ ।
 रेतोघा—(सं. वि. स्त्री.) गर्भिणी, गर्भवती ।
 रेतोमार्ग—(सं.पुं.) शुक निकलने का छिद्र ।
 रेतनी—(हिं. स्त्री.) वह वस्तु जिससे रंग निकलता हो ।
 रेनु—(हिं. पुं.) देखें 'रेणु' ।
 रेप—(सं. वि.) कृपण, क्रूर, निन्दित ।
 रेफ—(सं. पुं.) रकार, रवर्ग, 'र' का वह हलन्त रूप जो इसके अन्य अक्षर के पहले आने पर उस अक्षर के माथे पर रखा जाता है; जैसे-दर्य, गर्व आदि में; राग, शब्द ।
 रेफधिपुला—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द ।

रेभ—(सं. वि.) कठोर वचन बोलनेवाला ।
 रेभण—(सं. पुं.) गाय का बोलना ।
 रेमि—(सं. वि.) रमण करनेवाला ।
 रेरिह—(सं. वि.) जीभ से बारंवार चाटना ।
 रेरिहाण—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 रेखा (वा)—(हिं. पुं.) बड़ा उल्लू पक्षी ।
 रेल—(हिं. स्त्री.) बहाव, धारा, अधिकता; (अं. स्त्री.) लोहे की पटरी जिस पर रेलगाड़ी चलती है, वाष्प-शक्ति द्वारा स्वचालित यान या गाड़ी; -वे-ठेल, -पेल—(स्त्री.) भीड़-माड़; रेलगाड़ी, इसका सामूहिक विभाग ।
 रेलना—(हिं. क्रि. अ., स.) आगे की ओर झोकना या ढकेलना, अधिक भरा होना, ठूस-ठूसकर भोजन करना ।
 रेली—(हिं. पुं.) तबले पर महीन और सुन्दर बोलों को वजाने की रीति, पंक्ति, समूह, धक्का-मुक्का, अधिकता, जल का प्रवाह, बहाव, दल बनाकर चढ़ाई, धावा, आक्रमण ।
 रेवँछा—(हिं. पुं.) एक द्विदल अन्न जिसकी दाल खाई जाती है ।
 रेवड़—(हिं. पुं.) भेड़-बकरियों का झुंड ।
 रेवड़ी—(हिं. स्त्री.) चीनी की चाशनी का टुकड़ा जिस पर सफेद तिल चिपकाया होता है ।
 रेवत—(सं. पुं.) जँवीरी नीवू, बलराम के श्वशुर का नाम ।
 रेवतक—(सं. पुं.) कबूतर ।
 रेवती—(सं. स्त्री.) अश्विनी आदि नक्षत्रों में से सत्ताईसवाँ नक्षत्र जो बत्तीस तारों का समुदाय है, बलराम की पत्नी का नाम, दुर्गा, गाय ।
 रेवतीभव—(सं. पुं.) शनि ।
 रेवतीरमण—(सं. वि.) बलराम, विष्णु ।
 रेवतीश—(सं. पुं.) बलराम ।
 रेवा—(सं. स्त्री.) नर्मदा नदी, कामदेव की पत्नी, रति, दुर्गा, नील का पौधा, दीपक राग की एक रागिनी ।
 रेशम—(फा. पुं.) एक प्रकार के कोश-युक्त कीड़े के चारों ओर समा-वेष्टित महीन या वारीक रेशों या तंतुओं के गुच्छों से बननेवाला चमकीला और मजबूत सूत या उससे बना हुआ वस्त्र; (य कीड़े शहतूत के वृक्षों पर पाले जाते हैं ।)
 रेशमी—(फा. वि.) रेशम का, रेशम-संबंधी ।
 रेशा—(फा. पुं.) वारीक तंतु जो कुछ वनस्पतियों तथा कीड़ों से प्राप्त होता है ।
 रेष—(सं. पुं.) क्षति, हानि ।
 रेषण—(सं. पुं.) थोड़े का हिनहिनाना ।

रेषा—(सं. स्त्री.) देखें 'रेषण' ।
 रेष्मन—(सं. पुं.) प्रलय-काल ।
 रेह—(हिं. स्त्री.) खार मिली हुई मट्टी जो ऊसर में पाई जाती है ।
 रेहन—(फा. पुं.) मकान या भूसम्पत्ति को महाजन के पास कर्ज के प्रतिभू के रूप में बंधक या गिरवी रखना; -दारी—(पुं.) वह महाजन जिसके पास रेहन रखा गया हो; -दारी—(स्त्री.) वह जोत जो रेहन रखी गई हो; -नामा—(पुं.) रेहन के प्रमाण के लिए रेहन रखनेवाले व्यक्ति द्वारा लिखित लेख्य-पत्र या कबूलियत ।
 रेहुआ—(हिं. वि.) जिसमें रेह हो ।
 रतुआ—(हिं. पुं.) देखें 'रायता' ।
 रैदास—(हिं. पुं.) एक प्रसिद्ध भक्त जो जाति का चमार था, (यह रामानन्द का शिष्य था), चमार ।
 रैदासी—(हिं. वि., पुं.) रैदास भक्त के सम्प्रदाय का, एक प्रकार का मोटा धान ।
 रैन, रैन—(हिं. स्त्री.) रात्रि, रात; -चर—(पुं.) राक्षस ।
 रैनी—(हिं. स्त्री.) चाँदी या सोने की वह गुल्ली जो तार खींचने के लिये बनाई जाती है ।
 रैमुनिया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की अरहर ।
 रैयाराव—(हिं. पुं.) छोटा राजा, सरदार ।
 रैल—(हिं. स्त्री.) समूह ।
 रैवत—(सं. वि.) शंकर, महादेव ।
 रैवतक—(सं. पुं.) गुजरात का एक पर्वत जो जूनागढ़ के पास है, (इसको आज-कल गिरनार कहते हैं ।)
 रैहर—(हिं. पुं.) झगड़ा, लड़ाई ।
 रौंग—(हिं. पुं.) लोम, रोयाँ ।
 रौंगटा—(हिं. पुं.) संपूर्ण शरीर पर के रोएँ; (मुहा.) रौंगटे खड़े होना—रोमांच होना ।
 रौंठा—(हिं. पुं.) कच्चे आम की सुखाई हुई फाँक ।
 रौंव—(हिं. पुं.) रोआँ, लोम ।
 रौआँ—(हिं. पुं.) रोयाँ, लोम ।
 रौआव—(हिं. पुं.) प्रभाव, रूआव ।
 रौइया—(हिं. पुं.) भूमि में गड़ा हुआ लकड़ी का कुंदा जिस पर रखकर ऊँच के टुकड़े काटे जाते हैं ।
 रौडे—(हिं. पुं.) देखें 'रोयाँ' ।
 रोक—(सं. पुं.) नकद रुपया, रोकड़, नकद व्यवहार का सौदा, छेद, नाव; (हिं. स्त्री.) किसी काम में बाधा, रोकनेवाली वस्तु, रुकाव, अटकाव, निषेध, मनाही; -शोक, टोक, थाम—(स्त्री.) प्रतिवचन, बाधा, निषेध ।
 रोकड़—(हिं. स्त्री.) नकद रुपया-पैसा,

का बड़ा अभिमान हो; -ग्रह-(वि.) जिसका रंग-रूप सुन्दर हो; -घनाक्षरी-(स्त्री.) दण्डक छन्द का एक मद्द जिसके प्रत्येक चरण में बत्तीस अक्षर होते हैं; -घात-(पुं.) रूप या आकृति विगाड़ने का अपराध; -चतुर्दशी-(स्त्री.) कालिक कृष्णा चतुर्दशी; -ज-(वि.) रूप से उत्पन्न; -जीवनी-(स्त्री.) वेश्या, रंडी; -तरव-(पुं.) शील, स्वभाव; -तम-(वि.) बहुत सुन्दर; -ता-(स्त्री.) सुन्दरता; -दर्शक-(वि.) प्राचीन काल का मुद्राओं की परीक्षा करनेवाला; -धर-(वि.) सुन्दर; -धारी-(वि.) बहुरूपिया, रूप धारण करनेवाला; -पति-(पुं.) विश्वकर्मा; -भेद-(पुं.) भिन्न रूप; -मंजरी-(स्त्री.) राधिका की एक सखी का नाम, एक प्रकार का फूल; -मनी-(हि.वि.स्त्री.) रूपवती, सुन्दर; -मय-(वि.) बहुत सुन्दर; -मान्-(वि.) देखें 'रूपवान्'; -माला-(स्त्री.) एक मात्रिक छन्द का नाम, (इसका दूसरा नाम मदन है); -माली-(स्त्री.) एक छन्द का नाम जिसके प्रत्येक चरण में तीन मगण और नौ दीर्घ वर्ण होते हैं; -यौवन-(पुं.) रूप और युवावस्था; -रूपक-(पुं.) रूपक भङ्गकार का एक भेद; -वंत-(हि. वि.), -वान्-(वि.) रूपमय, सुन्दर; -वती-(स्त्री.) एक छन्द का नाम जिसको गोरी भी कहते हैं, चंपकमाला वृत्त का नाम, रुक्मवती; (वि.स्त्री.) सुन्दरी; -विपर्यय-(पुं.) रूप का परिवर्तन; -श्री-(स्त्री.) सम्पूर्ण जाति की एक संकर रागिनी; -संपद-(स्त्री.) उत्तम रूप, सुन्दरता; -समृद्ध-(वि.) रूप-शाली, रूपवान्; -समृद्धि-(स्त्री.) सुन्दरता, खूबसूरती; -सौ-(वि.स्त्री.) सुन्दर, मनोहर; -स्थ-(वि.) रूप-वान्, सुन्दर; -हानि-(स्त्री.) रूप का नाश।

रूपकातिशयोक्ति-(सं.स्त्री.) एक प्रकार की अतिशयोक्ति जिसमें केवल उपमान का उल्लेख करके उपमेय आदि का अर्थ समझाया जाता है।

रूपा-(हि. पुं.) चाँदी, घटिया चाँदी जिसमें कुछ मिलावट हो, सफेद रंग का घोड़ा, सफेद रंग का बैल।

रूपाजीवा-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी।

रूपाजिवोध-(सं. पुं.) इन्द्रियों द्वारा वास्तु वस्तु का ज्ञान।

रूपावली-(सं.स्त्री.) शब्द की विभक्तियों का वर्णन।

रूपाश्रय-(सं. पुं.) सुन्दर मनुष्य।

रूपास्त्र-(सं. पुं.) कन्दर्प, कामदेव।

रूपित-(सं.पुं.) एक प्रकार का उपन्यास जिसमें ज्ञान, वैराग्य आदि पात्र बनाये जाते हैं।

रूपी-(हि. वि.) रूपयुक्त, रूपवाला, सुन्दर, तुल्य, सदृश।

रूपोपजीवनी-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी।

रूपोपजीवी-(हि. वि.) बहुरूपिया।

रूप्य-(सं. वि.) सुन्दर; (पुं.) रूपया।

रूप्यक-(सं. पुं.) रूपया।

रूप्याध्यक्ष-(सं. पुं.) टकसाल का प्रधान अधिकारी।

रूमना-(हि. क्रि.अ.) झूलना, झूमना।

रूमाल-(फा.पुं.) कपड़े का वह छोटा-सा चौकोर टुकड़ा जो हाथ-मुँह पोछने के काम आता है, रमाल।

रुर-(सं. वि.) उत्तप्त, जला हुआ।

रुरना-(हि. क्रि. अ.) हल्ला करना, चिल्लाना, कोलाहल करना।

रुरा-(हि.वि.) श्रुष्ठ, सुन्दर, मनोहर।

रुलना-(हि. क्रि. स.) दबा देना।

रुलर-(अं.पुं.) सीधी रेखाएँ या सतह खींचनेवाला बेलन के आकार का डंडा।

रूपित-(सं. वि.) धूल से ढका हुआ।

रुसना-(हि.क्रि.अ.) रुठना, क्रुद्ध होना।

रुसा-(हि. पुं.) अड़ूसा, एक सुगन्धित घास का नाम।

रुसी-(हि.वि.)रुस देश का रहनेवाला, रुस-संबंधी; (स्त्री.) रुस देश की भाषा, सिर पर जमनेवाला भूसी के समान छिलका।

रुह-(अ. स्त्री.) आत्मा, -जीवात्मा, सत्त्व, सार।

रुहड़-(हि. पुं.) पुरानी रुई जो एक बार तोशक आदि में मरी जा चुकी हो।

रुहना-(हि. क्रि. स.) आवेष्टित करना, घेरना।

रुही-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का वृक्ष।

रुँकना-(हि. क्रि. अ.) गदहे का बोलना, मद्दी तरह से गाना।

रुंगटा-(हि. पुं.) गदहे का बच्चा।

रुंगना-(हि. क्रि. अ.) साँप, कीड़े या चींटी का चलना, धीरे-धीरे चलना।

रुंगनी-(हि. स्त्री.) भटकटैया।

रुँट-(हि. पुं.) नाक का मल, नकटी।

रुँटा-(हि. पुं.) लिसोड़े का फल।

रुँड-(हि. पुं.) एक पौधा जिसके बीज का

तेल गाढ़ा और रेचक होता है।

रुँडभेदा-(हि. पुं.) पपीता।

रुँडा-(हि. पुं.) एक प्रकार का धान।

रुँडी-(हि. स्त्री.) रुड़ के बीज।

रुँदी-(हि. स्त्री.) ककड़ी या खरबूजे का छोटा फल।

रुँरें-(हि. पुं.) बच्चों के रोने का शब्द।

रुँ-(सं.अव्य.) एक संबोधन-शब्द जिससे आदर का अभाव सूचित होता है; (पुं.) संगीत में ऋषभ स्वर।

रुँजता-(हि. पुं.) व्यजन, बना, पंखा।

रुँजती-(हि. स्त्री.) देख 'रवती'।

रुँक-(सं. पुं.) भक, मेढक।

रुँका-(सं. पुं.) शंका, सन्देह।

रुँकार्ड-(अं. पुं.) ग्रामोफोन वाजे पर बजनेवाला लाख का बना चिह्नित तार।

रुँकान-(हि.पुं.) वह भूमि जो नदी के पानी की पहुँच के बाहर हो।

रुँख-(हि. स्त्री.) रेखा, लकीर, चिह्न, गिनती, हिसाब, नई निकलती हुई मूँछ; (मुहा.) -खींचना-लकीर खींचना; -भौंगना-मूँछ निकलती हुई जान पड़ना।

रुँखना-(हि. क्रि. अ.) लकीर खींचना, खरोंचना, छेदना।

रुँखांश-(सं. पुं.) याम्योत्तर का एक अंश।

रुँखा-(सं. स्त्री.) छद्म, कपट, उल्लेख, लकीर, गणना, गिनती, आकृति, आकार; -गणित-(पुं.) गणित का वह विभाग जिसमें रेखाओं द्वारा कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये गये ह; -भूमि-(स्त्री.) लंका और सुमेरु के बीच का देश।

रुँखाकार-(सं. वि.) रेखा-जैसा, रेखा के सदृश।

रुँखित-(सं. वि.) जिस पर रेखा पड़ी हो, लकीर खींचा हुआ, फटा हुआ।

रुँगिस्तान-(फा.पुं.) मरुभूमि, मरुदेश।

रुँगिस्तानी-(फा. वि.) रुँगिस्तान का, रुँगिस्तान से संबद्ध।

रुँच-(हि. पुं.) ऐँठन, दोष।

रुँचक-(सं. पुं.) प्राणायाम में खींची हुई साँस को पुनः धीरे धीरे बाहर निकालने की क्रिया; (वि.) कोष्ठ-शुद्धि करनेवाला, जिसके खाने से शौच आवे।

रुँचन-(सं. पुं.) जुलाब, कोष्ठ शुद्धि।

रुँचना-(हि.क्रि.स.) अधोवायु या मल को बाहर निकालना।

रुँचनीय-(सं. वि.) शौच लानेवाला।

रुँचित-(सं.वि.) रुँचन किया हुआ।

रुँजगारी, रेजगी-(फा. स्त्री.) अल्प

मूल्य के सिक्के, खुदरा ।
 रेजू-(फा.पुं.) एक प्रकार का रेखा जो कूची बनाने के काम में लाया जाता है ।
 रेडियम-(अं.पुं.) एक प्रसिद्ध दुर्लभ तथा बहुमूल्य धातु जिससे सदा विजली की किरणें विकसित होती रहती हैं ।
 रेणु-(सं.पुं.) धूल, बालू, कणिका, अत्यन्त लघु परिमाण; (स्त्री.) विश्वामित्र की एक पत्नी का नाम, पृथ्वी, सँभालू का बीज; -का-(स्त्री.) पृथ्वी, रज, धूल, बालू, परशुराम की माता का नाम जो विदर्भराज की कन्या और जमदग्नि की स्त्री थी; -सुत-(पुं.) परशुराम; -गर्भ-(पुं.) ज्योतिषोक्त होरा-निर्णायक यन्त्र; -त्व-(पुं.) रेणु का भाव या धर्म; -पदवी-(स्त्री.) धूल से भरा हुआ मार्ग; -मत्-(पुं.) रेणुका के गर्भ से उत्पन्न विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम; -लुपित-(पुं.) गर्दम, गदहा; -वास-(पुं.) भ्रमर, मौंरा; -सार-(पुं.) कर्कूर, कपूर ।
 रेत-(सं.पुं.) शुक्र, वीर्य, जल, पारा, लोहा; (हि.पुं.) रतन का एक अस्त्र; (स्त्री.) बालू, मरुस्थल ।
 रेतज-(सं.पुं.) पुत्र, लड़का ।
 रेतन-(सं.पुं.) शुक्र, वीर्य ।
 रेतना-(हि.क्रि.सं.) रेतों से किसी वस्तु को रगड़कर उससे महीन कण गिराना, किसी अस्त्र की धार रगड़ना ।
 रेतल-(हि.पुं.) भूरे रंग का एक पक्षी ।
 रेतला-(हि.वि.) रेतौला ।
 रेतस्-(सं.पुं.) शुक्र, वीर्य ।
 रेतौ-(हि.स्त्री.) बालू ।
 रेतिया-(हि.पुं.) रेतनेवाला ।
 रेतौ-(हि.स्त्री.) (लोहा, लकड़ी आदि) रेतने का लोहे का एक अस्त्र, नदी या समुद्र के किनारे की बलुई भूमि ।
 रेतौला-(हि.वि.) बालुकामय, बलुआ ।
 रेतौवा-(सं.वि.स्त्री.) गर्मिणी, गर्भवती ।
 रेतौमार्ग-(सं.पुं.) शुक्र निकलने का छिद्र ।
 रेतौनी-(हि.स्त्री.) वह वस्तु जिससे रंग निकलता हो ।
 रेतु-(हि.पुं.) देखें 'रेणु' ।
 रेप-(सं.वि.) कृपण, क्रूर, निन्दित ।
 रेफ-(सं.पुं.) रकार, रवर्ग, 'र' का वह हलन्त रूप जो इसके अन्य अक्षर के पहले आने पर उस अक्षर के माये पर रखा जाता है; जैसे-र्यर्ष, गर्भ आदि में; राग, शब्द ।
 रेफविपुला-(सं.स्त्री.) एक प्रकार का छन्द ।

रेभ-(सं.वि.) कठोर वचन बोलनेवाला ।
 रेभण-(सं.पुं.) गाय का बोलना ।
 रेभि-(सं.वि.) रमण करनेवाला ।
 रेरिह-(सं.वि.) जीम से बारंबार चाटना ।
 रेरिहाण-(सं.पुं.) शिव, महादेव ।
 रेखा(वा)-(हि.पुं.) बड़ा उल्लू पक्षी ।
 रेल-(हि.स्त्री.) वहाव, धारा, अधिकता; (अं.स्त्री.) लोहे की पटरी जिस पर रेलगाड़ी चलती है, वाष्प-शक्ति द्वारा स्वचालित यान या गाड़ी; -वे-ठेल, -पेल-(स्त्री.) मीड़-माड़; रेलगाड़ी, इसका सामूहिक विभाग ।
 रेलना-(हि.क्रि.अ.,सं.) आगे की ओर झोकना या ढकेलना, अधिक भरा होना, ठूस-ठूसकर भोजन करना ।
 रेला-(हि.पुं.) तबले पर महीन और सुन्दर बोलों को बजाने की रीति, पंक्ति, समूह, धक्का-मुक्का, अधिकता, जल का प्रवाह, वहाव, दल बनाकर चढ़ाई, धावा, आक्रमण ।
 रेवँछा-(हि.पुं.) एक द्विदल अन्न जिसकी दाल खाई जाती है ।
 रेवड़-(हि.पुं.) भेड़-बकरियों का झुंड ।
 रेवड़ी-(हि.स्त्री.) चीनी की चाशनी का टुकड़ा जिस पर सफेद तिल चिपकाया होता है ।
 रेवत-(सं.पुं.) जँबीरी नीबू, बलराम के स्वगुर का नाम ।
 रेवतक-(सं.पुं.) कबूतर ।
 रेवती-(सं.स्त्री.) अश्विनी आदि नक्षत्रों में से सत्ताईसवाँ नक्षत्र जो बत्तीस तारों का समुदाय है, बलराम की पत्नी का नाम, दुर्गा, गाय ।
 रेवतीभव-(सं.पुं.) शनि ।
 रेवतीरमण-(सं.वि.) बलराम, विष्णु ।
 रेवतीश-(सं.पुं.) बलराम ।
 रेवा-(सं.स्त्री.) नर्मदा नदी, कामदेव की पत्नी, रति, दुर्गा, नील का पीषा, दीपक राग की एक रागिनी ।
 रेवाम-(फा.पुं.) एक प्रकार के कोश-युक्त कीड़े के चारों ओर समा-वेष्टित महीन या बारीक रेवों या तंतुओं के गुच्छों से बननेवाला चमकीला और मजबूत सूत या उससे बना हुआ वस्त्र; (य कीड़े शहदूत के वृक्षों पर पाले जाते हैं) ।
 रेवामी-(फा.वि.) रेगम का, रेवाम-संबंधी ।
 रेवा-(फा.पुं.) बारीक तंतु जो कुछ वनस्पतियों तथा कीड़ों से प्राप्त होता है ।
 रेव-(सं.पुं.) क्षति, हानि ।
 रेवण-(सं.पुं.) घोड़े का हिनहिनाना ।

रेषा-(सं.स्त्री.) देखें 'रेषण' ।
 रेष्मन-(सं.पुं.) प्रलय-काल ।
 रेह-(हि.स्त्री.) खार मिली हुई मट्टी जो ऊसर में पाई जाती है ।
 रेहन-(फा.पुं.) मकान या भूस्वामि को महाजन के पास कर्ज के प्रतिभू के रूप में बंधक या गिरवी रखना; -दार-(पुं.) वह महाजन जिसके पास रेहन रखा गया हो; -दारी-(स्त्री.) वह जोत जो रेहन रखी गई हो; -नामा-(पुं.) रेहन के प्रमाण के लिए रेहन रखनेवाले व्यक्ति द्वारा लिखित लेख्य-पत्र या कबूलियत ।
 रेहुआ-(हि.वि.) जिसमें रेह हो ।
 रतुआ-(हि.पुं.) देखें 'रायता' ।
 रैदास-(हि.पुं.) एक प्रसिद्ध भक्त जो जाति का चमार था, (यह रामानन्द का शिष्य था), चमार ।
 रैदासी-(हि.वि.,पुं.) रैदास भक्त के सम्प्रदाय का, एक प्रकार का मोटा धान ।
 रैन, रैन-(हि.स्त्री.) रात्रि, रात; -चर-(पुं.) राक्षस ।
 रैनी-(हि.स्त्री.) चाँदी या सोने की वह गुल्ली जो तार खींचने के लिये बनाई जाती है ।
 रैमुनिया-(हि.स्त्री.) एक प्रकार की अरहर ।
 रैयाराव-(हि.पुं.) छोटा राजा, सरदार ।
 रैल-(हि.स्त्री.) समूह ।
 रैवत-(सं.वि.) शंकर, महादेव ।
 रैवतक-(सं.पुं.) गुजरात का एक पर्वत जो जूनागढ़ के पास है, (इसको आज-कल गिरनार कहते हैं) ।
 रैहर-(हि.पुं.) झगड़ा, लड़ाई ।
 रौंग-(हि.पुं.) लोम, रोयाँ ।
 रौंगटा-(हि.पुं.) संपूर्ण शरीर पर के रोएँ; (मुह.) रौंगटे खड़े होना-रोमांच होना ।
 रौंठा-(हि.पुं.) कच्चे आम की सुखाई हुई फाँक ।
 रौव-(हि.पुं.) रौवाँ, लोम ।
 रौवाँ-(हि.पुं.) रोयाँ, लोम ।
 रौभाव-(हि.पुं.) प्रभाव, रभाव ।
 रौइया-(हि.पुं.) भूमि में गड़ा हुआ लकड़ी का कुंदा जिस पर रखकर ऊँच के टुकड़े काटे जाते हैं ।
 रौड-(हि.पुं.) देखें 'रौयाँ' ।
 रोक-(सं.पुं.) नकद रुपया, रोकड़, नकद व्यवहार का सौदा, छेद, नाव; (हि.स्त्री.) किसी काम में बाधा, रोकनेवाली वस्तु, रुकाव, अटकाव, निषेध, मनाही; -शौक, टोक, याम-(स्त्री.) प्रतिबन्ध, बाधा, निषेध ।
 रोकड़-(हि.स्त्री.) नकद रुपया-पैसा,

मूलघन, पूंजी, जमा; -बही-(स्त्री.) वह किताब या बही जिसमें नकद हपयों के लेन-देन का हिसाब लिखा जाता है; -बिक्री-(स्त्री.) नकद दाम पर बिक्री।
रोकड़िया-(हिं. पुं.) रोकड़ रखनेवाला, कोपाध्यक्ष।
रोकना-(हिं. क्रि. स.) गति का अवरोध करना, बाधा डालना, मना करना, वश में करना, ऊपरन आन देना, स्थगित करना, प्रहार आदि न लाने देना, जाने न देना।
रोख-(हिं. पुं.) देखें 'रोष'।
रोग-(सं. पुं.) व्याधि; -कारक-(वि.) रोग उत्पन्न करने वाला; -ग्रस्त-(वि.) रोग से पीड़ित; -न-(पुं.) औषध; (वि.) रोग को हटानेवाला; -ज्ञ-(पुं.) वैद्य; -द-(वि.) दुःख देनेवाला, रोग उत्पन्न करनेवाला; -नाशक-(वि.) रोग दूर करनेवाला; -निदान-(पुं.) रोग के लक्षण से इसकी उत्पत्ति; कारण आदि की पहचान; -पति-(पुं.) ज्वर; -प्रद-(वि.) रोग उत्पन्न करनेवाला; -भाज-(वि.) रोगग्रस्त, रोगी; -भू-(स्त्री.) शरीर, देह; -मुक्त-(वि.) रोग से छुटकारा पाया हुआ; -राज-(पुं.) राजयक्ष्मा रोग; -लक्षण-(पुं.) रोग का निदान; -विज्ञान-(पुं.) रोग पहचानने के नियम आदि; -विनिश्चय (पुं.) रोग का निदान करना; -शान्ति-(स्त्री.) रोग-मुक्ति; -शिला-(स्त्री.) मनशिल, मैनसिल; -ह-(पुं.) औषध, दवा; -हारी-(पुं.) चिकित्सक, वैद्य; -हृत्-(वि.) रोगनाशक; -हेतु-(पुं.) रोग का कारण।
रोगन-(फा. पुं.) तेल, चिकनाई, रंग, वार्निश, पतला लेप; -दार-(वि.) जिसमें रोगन हो, रोगनयुक्त।
रोगाक्रांत-(सं. वि.) व्याधिग्रस्त।
रोगानुर-(सं. वि.) व्याधिग्रस्त, पीड़ित।
रोगिणी-(सं. वि., स्त्री.) रोगी (स्त्री)।
रोगित-(सं. वि.) रोग से पीड़ित।
रोगिया-(हिं. पुं.) रोगी।
रोगी-(सं. वि.) व्याधिग्रस्त, रूग्ण।
रोचक-(सं. पुं.) कदली, केला; (वि.) रुचिकारक, मनोरंजक; -ता-(स्त्री.) मनोहरता।
रोचकी-(सं. वि.) इच्छा करनेवाला।
रोचन-(सं. पुं.) अमलतास, सफेद सहजन, प्याज, अनार, सेमल, कामदेव के पाँच वाणों में से एक, रोली, गोरुचन;

(वि.) रुचनेवाला, शोभा देनेवाला, प्रिय लगनेवाला; -फला-(स्त्री.) ककड़ी।
रोचनक-(सं. पुं.) वंशलोचन।
रोचना-(सं. स्त्री.) लाल कमल, आकाश, स्वर्ग, वंशलोचन, वसुदेव की स्त्री का नाम।
रोचनी-(सं. स्त्री.) गोरुचन, मैनसिल।
रोचि-(सं. स्त्री.) प्रभा, दीप्ति, किरण।
रोचित-(सं. वि.) सुशोभित।
रोचिष्णु-(सं. वि.) रोचक, चमकदार।
रोचिस्-(सं. पुं.) प्रभा, कान्ति।
रोज-(फा. पुं.) दिवस, दिन; (अव्य.) प्रतिदिन, नित्य।
रोजगार-(फा. पुं.) जीविका का आर्थिक साधन, व्यवसाय, पेशा, व्यापार।
रोजगारी-(फा. पुं.) व्यापारी।
रोजनामचा-(फा. पुं.) दैनन्दिनी, डायरी।
रोजमर्ग-(फा. अव्य.) रोज या प्रतिदिन, अत्यह।
रोजा-(फा. पुं.) व्रत, उपवास, वह मासिक व्रत जो मुसलमान रमजान के महीने भर रखते हैं।
रोजाना-(फा. अव्य.) प्रतिदिन।
रोजी-(फा. स्त्री.) नित्य का भोजन, जीविका, पेशा, धंधा; -दार-(पुं.) रोजी पानवाला।
रोझ-(हिं. स्त्री.) नीलगाय।
रोट-(हिं. पुं.) गेहूँ के आटे की बहुत मोटी रोटी, लिट्टी।
रोटका-(हिं. पुं.) बाजरा।
रोटा-(हिं. वि.) पिसा हुआ।
रोटिहा-(हिं. पुं.) वह सेवक जो केवल भोजन पर काम करता है।
रोटी-(हिं. स्त्री.) गुंध हुए आटे की टिकिया जो आँच पर सेंकी गई, हो, फुलका, रसोई; (मुहा.) (किसी बात को) -खाना-कोई काम करके जीविका निर्वाह करना; (किसी को) -तोड़ना-किसी के आश्रित रहना; -कपड़ा-(पुं.) भोजन और वस्त्र; -दाल-(स्त्री.) जीविका-निर्वाह; -फल-(पुं.) एक प्रकार का फल जो खाने में स्वादिष्ट होता है।
रोठा-(हिं. पुं.) एक प्रकार का बाजरा।
रोड़ा-(हिं. पुं.) बड़ा कंकड़, ईट या पत्थर का ढला, एक प्रकार का मोटा धान।
रोद-(सं. पुं.) क्रन्दन, रोना, दुःख प्रकट करना।

रोदन-(सं. पुं.) क्रन्दन, रोना।
रोदस्-(सं. पुं.) स्वर्ग, भूमि।
रोदसी-(हिं. स्त्री.) पृथ्वी।
रोदा-(हिं. पुं.) कमान (धनुष) की डोरी, पतली ताँत जिससे सितार के परदे बाँधे जाते हैं।
रोध-(सं. पुं.) किनारा, तट, रुकावट।
रोधक-(सं. वि.) रोकनेवाला।
रोधन-(सं. वि.) रोकनेवाला; (पुं.) अवरोध, रुकावट।
रोधना-(हिं. क्रि. स.) रुकावट डालना, रोकना।
रोधस्वती-(सं. स्त्री.) नदी।
रोधित-(हिं. वि.) रोका हुआ।
रोधी-(सं. वि.) रोकनेवाला।
रोध्य-(सं. वि.) रोकने योग्य।
रोध्र-(सं. पुं.) लोध्र, लोध।
रोना-(हिं. क्रि. अ.) पीड़ा, दुःख आदि से व्याकुल होकर मुँह से विशेष प्रकार का स्वर निकालना तथा नेत्रों से जल वहाना, दुःख करना, पछताना, बुरा मानना, चिढ़ना; (पुं.) दुःख; (वि.) रोनेवाला, थोड़ी-सी बात पर दुःख माननेवाला, बात-बात पर बुरा माननेवाला, चिड़चिड़ा; -रोकर-(अव्य.) बड़ी कठिनाई और परिश्रम से; -गाना-(क्रि. अ.) विनती करना; -रोनी-धोनी-(स्त्री.) शोक-प्रवृत्ति; -पीटना-(वि. अ.) विलाप करना।
रोप-(हिं. पुं.) हल की वह लकड़ी जो हरिस के छोर पर जड़ी रहती है।
रोपक-(सं. वि.) वृक्ष लगानेवाला, स्थापित करनेवाला, उठानेवाला।
रोपण-(सं. पुं.) प्रादुर्भाव, मोहित करना, स्थापित करना, ऊपर रखना, खड़ा करना, लगाना (बीज या पौधा), पारद, पारा, धाव पर लेप लगाना।
रोपणीय-(सं. वि.) रोपने योग्य।
रोपना-(हिं. क्रि. स.) जमाना, लगाना, ठहराना, अड़ाना, किसी वस्तु को लेन के लिये हथेली या कोई पात्र आगे बढ़ाना, पौधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में लगाना, बीज बोना, रखना।
रोपनी-(हिं. स्त्री.) धान आदि के पौधों को क्यारी से उखाड़कर खेत में लगाना, रोपने का काम।
रोपित-(सं. वि.) रोपा हुआ, जमाया हुआ, लगाया हुआ, स्थापित, रखा हुआ, मोहित किया हुआ।

रोप्य-(सं. वि.) रोपने योग्य ।
 रोब-(अ. पुं.) बड़प्पन या प्रभाव,
 धाक, जोश; (मुहा.) -जमाना-धाक
 जमाना; -में आना-जोश में आना ।
 रोबदार-(अ. वि.) रोब से युक्त ।
 रोमंथ-(सं. पुं.) पागुर करने की क्रिया ।
 रोम-(सं. पुं.) लोम, शरीर के बाल,
 रोवाँ, छिद्र, जल, पानी, भेड़ आदि का
 ऊन; (मुहा.) -रोममें-संपूर्ण शरीर में;
 -रोम से-हृदय से; -क-(पुं.) चुम्बक;
 -कूप-(पुं.) शरीर के वे महीन छिद्र
 जिनमें रोवें निकले होते हैं; -केशर-
 (पुं.) चामर, चँवर; -गर्त-(पुं.)
 देखें 'रोमकूप'; -गुच्छ-(पुं.) चामर,
 चँवर; -तक्षरी-(स्त्री.) बिना रोवें
 की स्त्री; -द्वार-(पुं.) देखें 'रोमकूप';
 -पाट-(पुं.) ऊनी वस्त्र, दुशाला;
 -पाद-(पुं.) अंग देश के एक प्राचीन
 राजा का नाम; -पुलक-(पुं.)
 रोमांच; -फला-(स्त्री.) डिंडिश,
 डड़सी; -बद्ध-(वि.) रोओं से बँधा
 हुआ; -भूमि-(स्त्री.) चर्म, चमड़ा;
 -रंघ्र-(पुं.) देखें 'रोमकूप'; -राजि-
 (स्त्री.) रोमावली, रोमों की पंक्ति;
 -लता-(स्त्री.) देखें 'रोमराजि'; -ला-
 (स्त्री.) वृहस्पति की कन्या का नाम;
 -बल्ली-(स्त्री.) कपिकच्छु, केवाँच;
 -बिकार-(पुं.) रोमांच; -श-(पुं.)
 मेष, भेड़ा, सुअर, एक ऋषि का नाम;
 -मूलिका-(स्त्री.) हरिद्रा, हल्दी;
 -शातन-(पुं.) बालों को काटना;
 -हरण-(पुं.) हस्ताल; -हष, -हषण-
 (पुं.) रोमांच, रोमों का खड़ा होना; (वि.)
 भयकर; -हृषित-(वि.) पुलकित ।
 रोमांच-(सं. पुं.) रोमहर्षण, आनन्द या
 भय से रोंगट खड़े होना, पुलक ।
 रोमांचित-(सं. वि.) जिसके रोंगटे खड़े हों ।
 रोमाग्र-(सं. पुं.) रोय की नोक ।
 रोमाली-(सं. स्त्री.) देखें 'रोमावली' ।
 रोमावलि, रोमावली-(सं. स्त्री.) रोमों
 की पंक्ति जो नाभि से ऊपर की ओर
 होती है ।
 रोमिल-(हि. वि.) रोमयुक्त ।
 रोमोदगति-(सं. स्त्री.) रोमांच, पुलक ।
 रोमोदगम-(सं. पुं.) रोयों खड़ा होना ।
 रोयाँ-(हि. पुं.) शरीर पर के लोम,
 या बाल, रोयाँ; (मुहा.) -खड़ा होना-
 रोमांच होना; -पसीजना- दया
 उत्पन्न होना ।
 रोर-(हि. स्त्री.) कलकल, कोलाहल,

धमासान, चिल्लाहट का शब्द; (वि.)
 प्रचण्ड, उपद्रवी, अत्याचारी ।
 रोरा-(हि. पुं.) चूर गाँजा ।
 रोरी-(हि. स्त्री.) हलदी-चूने से बनी हुई
 बुकनी जिसका तिलक लगाया जाता
 है, धूमधाम; (वि.) सुन्दर; (पुं.)
 लहसुनिया नामक रत्न ।
 रोल-(हि. पुं.) पानी का तोड़, बहाव,
 नक्काशी करने का एक अस्त्र; (स्त्री.)
 कोलाहल, शब्द, ध्वनि ।
 रोलर-(अ. पुं.) लुढ़कनेवाला बेलन-
 सा यंत्र या उपकरण ।
 रोला-(सं. पुं.) एक छन्द जिसके प्रत्येक
 चरण में चौबीस मात्राएँ होती हैं;
 (हि. पुं.) कोलाहल, धमासान युद्ध,
 चौका-बरतन करने का काम ।
 रोली-(हि. स्त्री.) देखें 'रोरी' ।
 रोवनहार-(हि. पुं.) रोनेवाला, वह कुटुंबी
 जो घर में किसी के मर जाने पर
 विलाप करता है ।
 रोवना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'रोना'; (वि.)
 बहुत जल्दी बुरा माननेवाला, हँसी या
 खेल में बुरा माननेवाला, चिढ़नेवाला ।
 रोवनिहार-(हि. वि.) देखें 'रोवनहारा' ।
 रोवनी-घोवनी-(हि. स्त्री.) रोने-घोणे
 का काम ।
 रोवाँ-(हि. पुं.) देखें 'रोयाँ' ।
 रोवासा-(हि. वि.) जो रोने पर तैयार
 हो, जो रो देना चाहता हो ।
 रोशन-(फा. वि.) प्रकाशमान, चमकीला,
 प्रसिद्ध, विख्यात, प्रकट; -चौकी-
 (स्त्री.) शहनाई की तरह का एक वाद्य-
 यंत्र; -दान-(पुं.) गवाक्ष, खिड़की ।
 रोशनाई-(फा. स्त्री.) लिखने की मसि,
 स्याही ।
 रोशनी-(फा. स्त्री.) प्रकाश, दीपक,
 बत्ती, ज्ञान की उन्नति ।
 रोष-(सं. पुं.) क्रोध, उमंग, कुढ़न,
 विरोध, वैर ।
 रोषण-(सं. वि.) क्रोध करनेवाला ।
 रोषिन्, रोषी-(सं. वि.) क्रोधी ।
 रोस-(हि. पुं.) देखें 'रोष', क्रोध ।
 रोसनाई-(हि. स्त्री.) देखें 'रोशनाई' ।
 रोसनी-(हि. स्त्री.) देखें 'रोशनी', प्रकाश ।
 रोह-(सं. पुं.) चढ़ना, चढ़ाई; (हि. पुं.)
 नीलगाय ।
 रोहज-(हि. पुं.) नेत्र, आँख ।
 रोहण-(सं. पुं.) चढ़ना, चढ़ाई, अंकुरित
 होना, ऊपर की बढ़ना ।
 रोहना-(हि. क्रि. अ., स.) चढ़ना, ऊपर

उठना या जाना, अपने ऊपर रखना,
 धारण करना, चढ़ाना, सवार कराना ।
 रोहा-(हि. पुं.) आँख की पलक के भीतर
 दान पड़ जाने का रोग ।
 रोहिणिका-(सं. स्त्री.) क्रुद्धा स्त्री ।
 रोहिणी-(सं. स्त्री.) स्त्री, गाय, बिजली,
 सफेद कौवाठोंठी, मजीठ, वसुदेव की
 स्त्री जो बलराम की माता थीं, पाँच
 वर्ष की कुमारी, अश्विनी आदि सत्ताईस
 नक्षत्रों में से चौथा नक्षत्र ।
 रोहिणीकांत-(सं. पुं.) चन्द्रमा ।
 रोहिणीपति-(सं. पुं.) वसुदेव ।
 रोहित-(सं. पुं.) सूर्य, रोहू मछली,
 कुंकुम, केशर, रुधिर, इन्द्रधनुष, राजा
 हरिश्चन्द्र के पुत्र का नाम, एक प्रकार
 का मृग; (वि.) लाल रंग का; -वाह-
 (पुं.) अग्नि ।
 रोहिताक्ष-(सं. पुं.) लाल आँख ।
 रोहिताश्व-(सं. पुं.) अग्नि, राजा
 हरिश्चन्द्र के पुत्र का नाम ।
 रोही-(हि. वि.) चढ़नेवाला; (पुं.)
 पीपल का पेड़, एक प्रकार का मृग,
 रोहिश घास, एक प्रकार का अस्त्र ।
 रोहन-(हि. पुं.) रोहन नाम का वृक्ष ।
 रोहू-(हि. पुं.) एक प्रकार की बड़ी मछली ।
 रौंद-(हि. स्त्री.) रौंदने की क्रिया या
 भाव, चक्कर ।
 रौंदन-(हि. स्त्री.) रौंदने की क्रिया, मर्दन ।
 रौंदना-(हि. क्रि. स.) पैरों से कुचलना,
 लातों से मारना, खूब पीटना ।
 रौंसा-(हि. पुं.) कवाच का वीज ।
 रौं-(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष ।
 रौक्ष्य-(सं. पुं.) लक्षता, रूखापन ।
 रौगन-(अ. पुं.) तेल, रंग आदि उप-
 करणों से बना हुआ रोगन ।
 रौजा-(अ. पुं.) वाग, बगीचा, वह
 घर जो राजा, नवाब आदि की कन्न पर
 बनाया जाता है ।
 रौताइन-(हि. स्त्री.) राव या रावत की
 स्त्री, ठकुराइन, स्त्रियों के लिये आदर-
 सूचक शब्द ।
 रौताई-(हि. स्त्री.) राव या रावत होने
 का भाव, ठकुराई, सरदारी ।
 रौद्र-(सं. पुं.) काव्य के नी रसों के अन्तर्गत
 एक रस जिसको उग्र भी कहते हैं, (इसमें
 क्रोधमूचक शब्दों और चेष्टायों का
 वर्णन रहता है), आर्द्रा नक्षत्र, यम,
 कार्तिकेय, हेमन्त ऋतु, एक प्रकार का
 अस्त्र, ग्यारह मात्राओं का एक छन्द;
 (वि.) रुद्र-सम्बन्धी तीव्र, भयानक,

भयंकर; -कर्म-(पुं.) भयंकर काम;
-ता-(स्त्री.) प्रचण्डता, डरावनापन।
रौद्रार्क-(सं.पुं.) तेईस मात्राओं का एक छन्द।
रौद्री-(सं. स्त्री.) वृद्ध की पत्नी, चण्डी।
रौनक-(अ.स्त्री.) दीप्ति, चमक, शोभा, छटा;
-दार-(वि.) सजा हुआ।
रौनी-(हि. स्त्री.) देख 'रमणी'।
रौप्य-(सं. पुं.) चाँदी, रूपा; -मुद्रा-(स्त्री.) चाँदी की मुद्रा।
रौरव-(सं. पुं.) एक नरक का नाम;
(वि.) चंचल, घूर्त, घोर, भयंकर।
रौरा-(हि. पुं.) हल्ला, कोलाहल, ऊधम;
(सव.) आपका।
रौराना-(हि. क्रि. अ.) बकबक करना।
रौरी-(हि. स्त्री.) कोलाहल।
रौरे-(हि. सव.) आप, संबोधन का शब्द।
रौला-(हि. पुं.) हल्ला, ऊधम।
रौलि-(हि. स्त्री.) चपत, घौल।
रौशन-(फा. पुं.) देख 'रोशन'।
रौहाल-(हि. स्त्री.) घोड़े की एक जाति,
घोड़े की एक चाल।
रौहित-(सं. पुं.) रोहित मनु के पुत्र का
नाम, कृष्ण के एक पुत्र का नाम।
रौहिष(श)-(सं.पुं.) रोहिष नामक घास।
रौही-(सं. स्त्री.) मृगी, हरनी।

ल

ल व्यंजन वर्ण का अट्ठाईसवाँ अक्षर;
इसका उच्चारण-स्थान दंत है।
लंक-(सं. स्त्री.) कटि, कमर, लंका द्वीप;
-नाथ-(पुं.) रावण, विभीषण।
लंका-(सं. स्त्री.) रावण का राज्य, कुलटा,
व्यभिचारिणी, चूडैल; -दाही-(पुं.) हनु-
मान; -नाथ-(पुं.) लंका द्वीप का राजा,
रावण; -पति-(पुं.) रावण, विभीषण।
लंकेश, लंकेश्वर-(सं.पुं.) रावण, विभीषण।
लंखनी-(सं. स्त्री.) घोड़े की लगाम।
लंग-(सं. पुं.) संग, साथ, उपपति।
लंगक-(सं. पुं.) उपपति, जार।
लंगड़-(हि. पुं.) लंगर; (वि.) लंगड़ा।
लंगड़ा-(हि. वि.) जिसका पैर टूटा या
बकाम हो, जिसका एक पाया टूट गया
हो; (पुं.) एक प्रकार का बहुत बढ़िया
कलमी आम।
लंगड़ाना-(हि. क्रि. अ.) लंगड़े की तरह
भचककर चलना।
गड़ी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द;
(वि.) (वह स्त्री) जिसके पैर टूट गये हों।
गर-(फा. पुं.) लोहे का एक शंक्वाकार

भारी उपकरण जो नाव, जहाज आदि
को रोक रखने के लिए धारा में गिरा या
तट पर गाड़ दिया जाता है, आश्रय।
लंगरई, लंगराई-(हि. स्त्री.) उपद्रव, ढिठाई।
लंगूर-(हि. पुं.) बंदर, एक विशेष प्रकार का
बंदर जिसका मुँह काला होता तथा पूँछ
लंबी होती है; -फल-(पुं.) नारियल।
लंगूरी-(हि. स्त्री.) घोड़ों की एक चाल।
लंगूल-(हि. पुं.) पूँछ, दुम।
लंगोट-(हि. पुं.) एक प्रकार का सिला
हुआ वस्त्र जो कमर में लपेटा जाता है,
(इससे केवल उपस्थ ढप जाता है);
-बंद-(पुं.) वह जो ब्रह्मचर्य का पालन
करता हो, कसरती पहलवान।
लंगोटिया धार-(हि. पुं.) बाल्यावस्था का मित्र
लंगोटी-(हि. स्त्री.) कौपीन, कछनी;
(मुहा.)-पर फाग खेलना-घन की
कमी रहते हुए अधिक व्यय करना।
लंघक-(सं. वि.) लाँघनेवाला, सीमा के
बाहर जानेवाला।
लंघन-(सं. पुं.) उपवास, लाँघने की क्रिया,
अतिक्रमण।
लंघना-(सं. क्रि. स.) देखें 'लाँघना'।
लंघनीय, लंघ्य-(सं. वि.) लाँघने योग्य।
लंघाना-(सं. क्रि. स.) पार-उतारना या
करना।
लंज-(सं. पुं.) काछ, द्रुम।
लंजिका-(हि. स्त्री.) वेश्या।
लंठ-(हि. वि.) मूर्ख, उद्दण्ड।
लंड-(हि. पुं.) पुरुष की मूर्खेन्द्रिय, शिश्न।
लंडूरा-(हि. वि., पुं.) विना पूँछ का, वह
पक्षी जिसकी सारी पूँछ कट गई हो।
लंप-(हि. पुं.) बत्ती, चिराग, लालटेन।
लंपट-(सं. वि.) व्यभिचारी, कामक;
(पुं.) उपपति, जार।
लंपटता-(सं. स्त्री.) लंपट होने का
भाव, दुराचारिता।
लंपाक-(सं. वि.) लंपट।
लंफ-(हि. पुं.) उछाल।
लंफन-(हि. पुं.) उछाल।
लंब-(सं. पुं.) किसी रेखा पर समकोण बनाने-
वाली रेखा, नर्तक, नाचनेवाला; पति,
उत्कोच, घूस, राग का एक भेद,
एक असुर का नाम, विषुवत् रेखा के
समानान्तर रेखा; (वि.) दीर्घ, लंबा;
-कर्म-(वि., पुं.) जिसके कान लंब हों,
राक्षस, हाथी, खरहा, बकरा; -श्रीव-
(पुं.) ऊँट; -जठर-(वि.) लंब
पेटवाला; -जिह्व-(पुं.) एक राक्षस
का नाम; -तड़ग-(हि. वि.) बहुत

लंबा; -दंता-(वि.) लंबे दाँत-
वाला; -न-(पुं.) आश्रय, झूलने की
क्रिया; -पयोधरा-(स्त्री.) जिस स्त्री के
स्तन लंबा हों; -मान-(वि.) लंबा।
लंबा-(सं. स्त्री.) दक्ष की कन्या का नाम;
-स्तनी-(स्त्री.) वह स्त्री जिसके स्तन
लटकते हो।
लंबर-(हि. पुं.) देखें 'नंबर'।
लंबरदार-(हि. पुं.) देखें 'नंबरदार'।
लंबा-(हि. वि.) जिसके दोनों छोर एक-
दूसरे से बहुत दूरी पर हों, जिसकी ऊँचाई
अधिक हो, ऊपर की ओर दूर तक उठा
हुआ, विशाल, बड़ा, दीर्घ; (मुहा.)
-करना-प्रस्थान कराना, चलता या
खाना करना, भूमि पर लेटा देना।
लंबाई-(हि. स्त्री.) लंबा होने का भाव,
लंबा आकार या विस्तार।
लंबान-(हि. स्त्री.) लंबाई।
लंबिका-(सं. स्त्री.) गले के भीतर की घंटी।
लंबित-(सं. वि.) अवलंबित।
लंबी-(हि. वि. स्त्री.) 'लंबा' शब्द का
स्त्रीलिंग रूप; (मुहा.)-तानना-वेफ़क़
सो जाना।
लंबीतरा-(हि. वि.) लंबे आकार का,
जो कुछ-कुछ लंबा हो।
लंबोदर-(सं. पुं.) गणेशजी।
लंबोष्ठ-(सं. पुं.) ऊँट; (वि.) लंबे ओठवाला।
लंभ (न) -(सं. पुं.) प्राप्ति।
लंभनीय-(सं. वि.) प्राप्य।
लंभित-(सं. वि.) प्राप्त किया हुआ।
लउ-(हि. स्त्री.) लगन।
लउटी-(हि. स्त्री.) देखें 'लकुटी'।
लकच-(सं. पुं.) बड़हर का पेड़।
लकड़बग्घा-(हि. पुं.) एक जंगली मांसा-
हारी पशु जो भेड़िये से कुछ बड़ा
होता है।
लकड़हारा-(हि. पुं.) वह जो जंगल से
लकड़ी लाकर नगर में बेचता हो।
लकड़ा-(हि. पुं.) लकड़ी का मोटा कुंदा,
जुआर-त्राजरे आदि का सूखा डंठल।
लकड़ी-(हि. स्त्री.) वृक्ष का कोई मोटा
भाग जो काटकर उससे अलग किया गया
हो, काठ, ईंधन, छड़ी, लाठी; (मुहा.)
-होना-सूखकर कड़ा हो जाना, अति
दुर्बल होना।
लकलक-(हि. वि.) खूब सफेद, चमकीला।
लकवा-(अ. पुं.) वह रोग जो शरीर के
कुछ अंगों (हाथ आदि) को सुन्न कर
देता है, पक्षाघात।
लकसी-(हि. स्त्री.) फल आदि तोड़ने की

लगी जिसके सिरे पर लोहे की चन्द्राकार अंकुसी लगी होती है ।

लकार—(सं. पुं.) 'ल' स्वरूप वर्ण ।

लकीर—(हि. स्त्री.) एक सीध में खींची हुई रेखा, आकृति, घारी, पंक्ति, रेखा के समान दूर तक का चिह्न; (मुहा.)

—का फकीर—पुराने ढंग पर चलनेवाला; —पीटना—पुरानी प्रथाओं पर चलना ।

लकुच—(सं. पुं.) बड़हर का वृक्ष ।

लकुट—(सं. पुं.) लगुड़, लाठी; (हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष जिसका जामुन के आकार का फल वर्षा ऋतु में पकता है ।

लकुटी—(हि. स्त्री.) छोटी लाठी, छड़ी ।

लकोड़ा—(हि. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी बकरा जिसके रोयों के दुशाले बनते हैं ।

लक्कड़—(हि. पुं.) काठ का बड़ा कुंदा ।

लक्का—(हि. पुं.) एक प्रकार का कबूतर, जो छाती उभाड़कर चलता है, इसकी, पूंछ फैली हुई रहती है; —कबूतर—(पुं.) नाच की एक मुद्रा ।

लक्की—(हि. वि.) लाख के रंग का; (पुं.) घोड़े की एक जाति, लखपती, बड़ा घनी ।

लक्त—(सं. वि.) लाल रंग का ।

लक्तक—(सं. पुं.) अलक्तक आलता, फटा-पुराना कपड़ा, चिथड़ा ।

लक्ष—(सं. पुं.) व्याज, बहाना, निशान, चिह्न, पर, अस्त्र का एक प्रकार का प्रहार; (वि., पुं.) एक लाख, सौ हजार की संख्या ।

लक्षक—(सं., पुं., वि.) (वह) जो लक्ष कराता हो, जता देनेवाला ।

लक्षण—(सं. पुं.) चिह्न, नाम जिससे जाना या पहचाना जाय, शरीर में दिखाई पड़नेवाले रोग के चिह्न, शरीर पर कहीं कहीं होनेवाला विशेष चिह्न, (ये चिह्न सामुद्रिक के अनुसार शुभाशुभ माने जाते हैं), सारस पक्षी, दर्शन, तरीका, चाल-ढाल; —ज्ञ—(पुं.) वह जो लक्षण पहचानता हो; —त्व—(पुं.) लक्षण का भाव या धर्म; —लक्षणा—(स्त्री.) लक्षणा का एक भेद; —वंत—(हि. वि.) लक्षणयुक्त ।

लक्षणा—(सं. स्त्री.) हंसी, सारसी; एक अप्सरा का नाम, शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा उसके अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है ।

लक्षणी—(सं. वि.) जिसमें कोई लक्षण या चिह्न हो, लक्षण जाननेवाला ।

लक्षणीय—(सं. वि.) लक्षण द्वारा जानने योग्य ।

लक्षा—(सं. स्त्री.) एक लाख की संख्या ।

लक्षि—(सं. स्त्री.) देखे 'लक्ष्मी' ।

लक्षित—(सं. वि.) आलोचित, विचारा हुआ, देखा हुआ, बतलाया हुआ, जिस पर कोई चिह्न बना हो, अनुमान से जाना हुआ; (पुं.) शब्द का वह अर्थ जो लक्षणा शक्ति द्वारा जाना जाता है ।

लक्षितव्य—(सं. वि.) लक्षित करने योग्य ।

लक्षितलक्षणा—(सं. स्त्री.) लक्षणा अलंकार का एक भेद ।

लक्षिता—(सं. स्त्री.) वह परकीया नायिका जिसका गुप्त प्रेम उसकी सखियों को मालूम हो जाय ।

लक्ष्मी—(सं. स्त्री.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चौबीस अक्षर होते हैं, (इस वृत्त को गंगोदक, गंगाधर या खंजन भी कहते हैं ।)

लक्ष्म—(सं. पुं.) चिह्न ।

लक्ष्मण—(सं. पुं.) चिह्न, लक्षण, सारस, दुर्योधन के एक पुत्र का नाम, दशरथ के द्वितीय पुत्र जो सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे; (वि.) शोभा और कान्तियुक्त ।

लक्ष्मणा—(सं. स्त्री.) सफेद कण्टकारी का पौधा, दुर्योधन की बेटे का नाम, मुचकुंद का पेड़ ।

लक्ष्मी—(सं. स्त्री.) विष्णु की पत्नी, पद्मा, कमला, धन की अधिष्ठात्री देवी, दुर्गा, शोभा, सौन्दर्य, सम्पत्ति, सीताजी का एक नाम, हल्दी, मोती, स्थल कमल, पद्म, कमल, सफेद, तुलसी आर्या छन्द का एक भेद, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में आठ वर्ण होते हैं; —क—(पुं.) भाग्यवान्; —कांत—(पुं.) नारायण; —गृह—(पुं.) लक्ष्मी का घर, लाल कमल; —टोड़ी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की संकर रागिनी; —ताल—(पुं.) संगीत में १८ मात्राओं का एक ताल; —त्व—(पुं.) लक्ष्मी का भाव या धर्म, ऐश्वर्य; —घर—(पुं.) विष्णु, लखिणी छन्द का दूसरा नाम; —नाथ—(पुं.) विष्णु; —नारायण—(पुं.) लक्ष्मी और नारायण, वह शालिग्राम शिला जिस पर चक्र बना रहता है; —निधि—(पुं.) राजा जनक के पुत्र का नाम; —निवास—(पुं.) लक्ष्मी का निवास-स्थान; —पति—(पुं.) विष्णु, वासुदेव, राजा सुपारी; —पुत्र—(पुं.) कामदेव, धनवान् पुरुष; —पुष्प—(पुं.) पद्म-राग मणि; —फल—(पुं.) वेल; —रमण—(पुं.) नारायण, विष्णु; —वसति—

(स्त्री.) कमल का फूल; —वह्निष्कृत—(वि.) धनहीन, दरिद्र; —वान्—(पुं.) कटहल का पेड़; (वि.) धनवान्, धनी; —श्रेष्ठा—(स्त्री.) स्थल, पद्मिनी; —सख—(पुं.) राजा या धनवान् मनुष्य; —सनाथ—(वि.) रूप और ऐश्वर्ययुक्त; —सहज—(पुं.) चन्द्रमा ।

लक्ष्य—(सं. पुं.) निशाना लगाने का स्थान, जिस पर किसी प्रकार का आक्षेप किया जाय, अस्त्रों का एक प्रकार का संहार, उद्देश्य, शब्दों के वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य इन तीनों अर्थों में वह अर्थ जो लक्षणा से निकलता है; —क्रम—(पुं.) वह अज्ञात विधि जिससे उद्दिष्ट वस्तु का आकार और चेष्टा जानी जाय; —ज्ञ—(पुं.) लक्ष्य का ज्ञानी; —त्व—(पुं.) वह ज्ञान जो चिह्न अथवा दृष्टान्त द्वारा उत्पन्न हो; —ता—(स्त्री.) लक्ष्य का भाव या धर्म; —भेद—(पुं.) वह निशाना जिससे चलते या उड़ते हुए लक्ष्य को भेदा जाता है; —वीथी—(स्त्री.) ब्रह्मलोक का मार्ग, वह विधि जिससे जीवन का उद्देश्य सिद्ध हो; —वेधी—(वि.) लक्ष्य का वेध करनेवाला; —मुप्त—(वि.) नींद तोड़नेवाला; —हन्—(वि.) लक्ष्य का वेध करनेवाला, ठीक निशाना लगानेवाला । लक्ष्यार्थ—(सं. पुं.) लक्षणा से निकलनेवाला अर्थ ।

लक्ष्यघर—(हि. पुं.) देखें 'लक्षागृह' ।

लखन—(हि. पुं.) लक्ष्मण; (हि. स्त्री.)

लखने या देखने की क्रिया या भाव ।

लखना—(हि. क्रि. स.) लक्षण देखकर अनुमान कर लेना, देखना ।

लखपती—(हि. पुं.) जिसके पास लाखों रुपयों की सम्पत्ति हो ।

लखमीतात—(हि. पुं.) समुद्र ।

लखमीवर—(हि. पुं.) विष्णु ।

लखर—(हि. पुं.) काकड़ासिगी नामक फल जिसको सुंघाकर मूर्च्छित आदमी को सचेत करते हैं ।

लखराव—(हि. पुं.) आम की बड़ी वाटिका ।

लखलट—(हि. वि.) धन लुटानेवाला, अपव्ययी ।

लखाड—(हि. पुं.) चिह्न, लक्षण, स्मारक रूप में दिया हुआ कोई पदार्थ ।

लखाना—(हि. क्रि. स.) दिखलाना, समझा देना, अनुमान करा देना ।

लखाव—(हि. पुं.) देखें 'लखाड' ।

लखिमी—(हि. स्त्री.) देखें 'लक्ष्मी' ।

लखिया—(हि. वि.) लखनेवाला, अनुमान

करनेवाला।

लखी—(हि. पुं.) लाख के रंग का घोड़ा।

लखेदना—(हि. क्रि. स.) भगाना।

लखेरा—(हि. पुं.) लाख की चूड़ी, खिलौने आदि बनानेवाली एक जाति।

लखोट (ठ)—(हि. पुं.) देखें 'लकुट'।

लखोट—(हि. पुं.) स्त्रियों के हाथ में पहिनने की लाख की चौड़ी चूड़ी।

लखौरी—(हि. स्त्री.) पुराने ढंग की छोटी पतली ईंट, भौरी का घर जो वह मिट्टी का बनाती है, किसी देवता को उसके प्रिय वृक्ष की एक लाख पत्तियाँ या फल चढ़ाना।

लगत—(हि. स्त्री.) लगने या स्त्री-प्रसंग करने की क्रिया या भाव, लगन होने की क्रिया।

लग—(हि. अव्य.) पास, पर्यन्त, तक, लिये, साथ, संग; (स्त्री.) लगन, प्रेम।

लगढग—(हि. अव्य.) देखें 'लगभग'।

लगवी—(हि. स्त्री.) वच्चों के नीचे विछाने की कथरी।

लगन—(हि. स्त्री.) लगने की क्रिया या भाव, लगाव, प्रवृत्ति का किसी ओर लगाना, प्रेम, लौ, संबंध; (पुं.) विवाह आदि के लिये स्थिर किया हुआ शुभ मुहूर्त, देखें 'लगन'।

लगनपत्री—(हि. स्त्री.) विवाह के मुहूर्त का पत्र जो कन्या का पिता वर के पिता के पास भेजवाता है।

लगना—(हि. क्रि. स.) दो पदार्थों के तल का परस्पर मिलना, सटना, मिल जाना, जड़ा या चिपकाया जाना, जमना, उगना, स्थापित होना, चोट पहुँचना, संबंध में कोई होना, किनारे पर ठहरना, व्यय होना, क्रम में रखा जाना, जान पड़ना, आरंभ होना, गड़ना, चुमना, प्रहार पड़ना (लाठी का), किसी कार्य में तत्पर होना, निश्चय होना, साथ होना, चिह्नित होना, गाय-भैंस आदि का दुहा जाना, जीक बैठना, छेड़छाड़ करना, आरोप होना, जलना, हिसाब होना, जहाज या नाव का छिछले पानी में बँस जाना, इकट्ठा होना, मूल्य निर्धारित होना, पाल को खींचकर चढ़ाना, विछाना, फैलाना, किसी शस्त्र की धार पैनी करना, परचना, सधना, ताक या घात में रहना, संभोग करना, निश्चित स्थान पर पहुँचना, जानवरों का जोड़ा खाना; आवश्यक होना, प्रभाव पड़ना, सड़ना, गलना, टकराना,

किसी वस्तु का शरीर पर जलन उत्पन्न करना, किसी पदार्थ का तल में बैठना, मला जाना, रगड़ खाना, दाँव पर रखा जाना, समीप पहुँचना; (पुं.) एक प्रकार का जंगली हरिना; लगती बात—मर्मवेधी वार्ता।

लगनि—(हि. स्त्री.) देखें 'लगन'।

लगनी—(हि. स्त्री.) छोटी थाली।

लगभग—(हि. अव्य.) प्रायः।

लगमात—(हि. स्त्री.) स्वरों के चिह्न जो उच्चारण के लिये व्यंजनों में जोड़े जाते हैं।

लगर—(हि. पुं.) एक शिकारी पक्षी, बाज।

लगव—(हि. वि.) मिथ्या, झूठ, असत्य।

लगवाना—(हि. क्रि. स.) लगाने का काम दूसरे से कराना, दूसरे को लगाने में प्रवृत्त करना।

लगवार—(हि. पुं.) उपपत्ति, यार।

लगातार—(हि. अव्य.) एक के बाद एक, अटूट।

लगान—(हि. पुं.) लगने या लगाने की क्रिया या भाव, वह स्थान जहाँ भार ढोनेवाले अपने सिर पर का बोझ उतारकर सुस्ताते हैं, भूमिकर जो किसान भूस्वामी को देता है, राजस्व, पीत।

लगाना—(हि. क्रि. स.) एक पदार्थ के छोर से दूसरे पदार्थ का छोर मिलाना, रगड़ना, चिपकाना, जोड़ना, आरोपित करना, अभियोग चलाना, नियुक्त करना, प्रवृत्त करना, सम्मिलित करना, संभोग करना, विछाना, फैलाना, नाव या जहाज को छिछले किनारे पर रोकना, चिह्नित करना, सान धराना, बदले म देना, पास लाना, किसी के प्रति दुर्भाव उत्पन्न करना, छुड़ाना, तत्पर करना, दाम आँकना, अपने साथ ले चलना, गाड़ना, घँसाना, पहिनना, ओढ़ना, परचना, गाय-भैंस को दुहना, निश्चित स्थान पर पहुँचाना, जलाना, क्रम में रखना, अनुभव करना, व्यय करना, चोट पहुँचाना, पीतना, स्थापित करना, सड़ाना, अभिमान करना, चुनना, वृक्ष जमाना, काम में लाना, दाँव पर रखना।

लगाम—(फा. स्त्री.) घोड़े के मुँह में लगाने का लोहे का ढाँचा जिसके दोनों ओर चमड़े का तस्मा या रस्सा बँधा रहता है जिसको सवार या हाँकनेवाला हाथ में थामता है, बाग, रास।

लगाय—(हि. स्त्री.) प्रेम।

लगर—(हि. स्त्री.) बंधेज, लगाव, वह जिससे घनिष्ठता का संबंध हो, मेली, लगने की क्रिया या भाव, लगन, प्रीति,

क्रम, टिकान, भेद लेने के लिये मेजा हुआ मनुष्य, किसी घर के ऊपरी भाग से मिला हुआ कोई ऐसा स्थान जहाँ से कोई आ-जा सकता है।

लगालगी—(हि. स्त्री.) लाग, संबंध, मेल-जोल, प्रेम, स्नेह।

लगालिका—(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में चार अक्षर होते हैं।

लगाव—(हि. पुं.) लगने का भाव, संबंध; -ट—(स्त्री.) प्रीति, प्रेम, संबंध।

लगावन—(हि. पुं.) देखें 'लगाव'।

लगावना—(हि. क्रि. स.) देखें 'लगाना'।

लगि—(हि. अव्य.) देखें 'लग'; (स्त्री.) लग्गी।

लगित—(सं. वि.) संयुक्त, मिला हुआ।

लगी—(हि. स्त्री.) मेल, प्रेम, देखें 'लग्गी'।

लगु—(हि. अव्य.) लग।

लगड़—(सं. पुं.) दण्ड, डंडा, लाठी।

लगुल—(हि. पुं.) शिरन, लिग।

लगूर—(हि. स्त्री.) लांगल, पोंछ।

लग्—(हि. अव्य.) देखें 'लग'।

लगाँहा—(हि. वि.) जिसको लगन लगाने की अभिलाषा हो, रिस्तबैया।

लगा—(हि. पुं.) लंबा बाँस, वह लंबा बाँस जिसके आगे एक अँकुसी लगी रहती है जिससे वृक्षों के फल तोड़े जाते हैं, कार्य आरंभ करना।

लग्गी—(हि. स्त्री.) लंबा बाँस, मोटा लगा।

लगड़—(हि. पुं.) इयन पक्षी, बाज, एक प्रकार का चीता, लकड़बग्घा।

लगा, लगी—(पुं., स्त्री.) देखें 'लगा', 'लग्गी'।

लगन—(सं. पुं.) ज्योतिष के अनुसार दिन का उतना अंश जितने में एक राशि उदय होती है, वह शुभ मुहूर्त जिसमें कोई मंगल-काय किया जाता है, विवाह का समय, व्याह; (वि.) लगा हुआ, मिला हुआ, आसक्त, लज्जित; -कंकण—(पुं.) वह मंगलसूत्र या कंकण जो विवाह के पहिले वर और कन्या के हाथ में बाँधा जाता है; -क—(पुं.) प्रतिभू, संगीत में एक राग का नाम; -काल—(पुं.) लगन का समय; -कुंडली—(स्त्री.) वह चक्र या कुण्डली जिससे यह पता चलता है कि जन्म के समय कौन-कौन से ग्रह किस-किस राशि में थे; -ग्रह—(पुं.) लगन में स्थित ग्रह; -दंड—(पुं.) संगीत में स्वरों का परस्पर मिलाप; -दिन—(पुं.) विवाह का निश्चित दिन; -पत्र—(पुं.) -पत्रिका—(स्त्री.) वह पत्र जिसमें विवाह तथा इससे संबंध रखनेवाले

अन्य कृत्यों का विवरण लिखा रहता है; -वेला-(स्त्री.) लग्न का समय। लग्नायु-(सं. स्त्री.) लग्न के अनुसार स्थिर की हुई आयु।

लग्निका-(सं. स्त्री.) नंगी स्त्री।

लग्नेश-(सं. पुं.) फलित ज्योतिष में वह ग्रह जो लग्न का स्वामी हो।

लग्नोदय-(सं. पुं.) किसी लग्न के उदय होने का समय।

लघित्र-(सं. पुं.) प्राचीन काल का एक प्रकार का धारदार अस्त्र।

लघिमा-(सं. स्त्री.) लघुत्व, छोटापन, योग से प्राप्त वह शक्ति जिससे योगी बहुत छोटा तथा हलका बन सकता है।

लघीयस्-(सं. वि.) बहुत छोटा या हलका।

लघु-(सं. पुं.) शरीर, खस, पन्द्रह क्षण का समय, व्याकरण में वह स्वर जो एक ही मात्रा का होता है, यथा-अ, इ, उ, ए, ओ आदि, चाँदी; (वि.) हलका, छोटा, सुन्दर, बढ़िया, थोड़ा, कम, कुर्बल, निःसार;

-करण-(पुं.) छोटा या तुच्छ करना;

-काय-(वि.) नाटे शरीर का; -क्रम-(पुं.) जल्दी-जल्दी चलने की क्रिया;

-क्रिया-(स्त्री.) तुच्छ कार्य; -गण-(पुं.) अश्विनी, पुष्य और हस्त नक्षत्रों का समूह; -चंदन-(पुं.) अगर नामक सुगन्धित लकड़ी;

-चित्त-(वि.) क्षिप्रचित्त; -चित्तता-(स्त्री.) चित्त का अति चंचल होना; -चेतस्-(वि.) क्षुद्र या नीच विचारवाला, जो देने में उदार न हो; -जंगल-(पुं.) लवा नामक पक्षी; -तर-(वि.) बहुत छोटा; -ता-(स्त्री.) तुच्छता, हलकापन; -तुपक-(स्त्री.) तमंचा, पिस्तौल; -त्व-(पुं.) तुच्छता, छोटापन, हलकापन; -डुडुभी-(स्त्री.) डुगडुगी; -द्राक्षा-(स्त्री.) किशमिश; -पत्रफला-(स्त्री.) छोटा गूलर; -पत्री-(स्त्री.) पीपल का वृक्ष; -पर्णी-(स्त्री.) सतावर; -पाक-(पुं.) सहज में पचनेवाला खाद्य; -पाती-(वि.) शीघ्र गिरनेवाला; -पिच्छिल-(पुं.) लिसोड़ा; -प्रयत्न-(वि.) आलसी; -फल-(पुं.) छोटा गूलर; -बदर-(पुं.) छोटा वेर; -भव-(पुं.) निकृष्ट जन्म; -भाव-(पुं.) सहज में होनेवाला कार्य; -भोजन-(पुं.) हलका भोजन; -मति-(वि.) छोटी बुद्धिवाला, मूर्ख; -मांस-(पुं.) तीतर नामक पक्षी; -मांसी-(स्त्री.) छोटी

जटामासी; -मान-(पुं.) नायिका का वह मान या अल्प रोष जो नायक को किसी अन्य स्त्री के साथ बात करते हुए देखकर उत्पन्न होता है; -राशि-(स्त्री.) छोटी संख्या; -लता-(स्त्री.) अनन्तमूल, करेले की लता; -लय-(पुं.) उशीर, खस; -वासा-(वि.) हलका तथा पतला वस्त्र पहननेवाला, -वृत्ति-(वि.) छोटा काम करनेवाला; -वेधी-(वि.) शीघ्र वेधनेवाला; -शंका-(स्त्री.) मूत्रोत्सर्ग; -शंख-(पुं.) घोघा; -शिखर-(पुं.) संगीत में एक प्रकार का ताल; -शीत-(पुं.) लिसोड़ा; -सत्व-(वि.) क्षुद्र प्रकृति का; -सार-(वि.) जिसमें थोड़ा सार हो; -हस्त-(पुं.) वह जो शीघ्र वाण चलाता हो, धनुर्धर; -हस्तता-(स्त्री.) शीघ्रता से वाण चलाना; -हृदय-(वि.) चंचल चित्तवाला।

लघूकरण-(सं. पुं.) काटना, छांटना।

लघूकृत-(सं. स्त्री.) कम बोलना।

लघ्वानन्द-(सं. वि.) कम आनन्द का।

लघ्वाशी-(सं. वि.) कम खानेवाला।

लघ्वाहार-(सं. पुं.) हलका भोजन।

लचक-(हिं. स्त्री.) लचकने की क्रिया या भाव, झुकाव, किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह दबती या झुकती है।

लचकना-(हिं. क्रि. अ.) दबाव पड़ने पर किसी लंबे पदार्थ का झुकना, लचना, स्त्रियों का चलती समय रह-रहकर झुकना।

लचकनि-(सं. स्त्री.) लचक, लचीलापन।

लचका-(हिं. पुं.) एक प्रकार का गेटा।

लचकाना-(हिं. क्रि. स.) झुकाना।

लचकीला, लचकीहाँ-(हिं. वि.) लचकने योग्य, लचकनेवाला।

लचन-(हिं. स्त्री.) देखें 'लचक'।

लचना-(हिं. क्रि. अ.) लचकना।

लचनि-(हिं. स्त्री.) लचक।

लचलचा-(हिं. वि.) लचीला।

लचलचापन-(हिं. पुं.) लचीला होने का भाव।

लचाना-(हिं. क्रि. स.) लचकाना, झुकाना।

लचार-(हिं. वि.) देखें 'लाचार'।

लचारी-(हिं. स्त्री.) देखें 'लाचारी', मेंट, एक प्रकार का ग्राम-गीत।

लच्छ-(हिं. पुं.) लक्ष्य, बहाना, सीं हजार की संख्या, लाख; (स्त्री.) लक्ष्मी।

लच्छण-(हिं. पुं.) लक्षण, स्वभाव।

लच्छन-(हिं. पुं.) देखें 'लक्षण'।

लच्छमी-(हिं. स्त्री.) देखें 'लक्ष्मी'।

लच्छा-(हिं. पुं.) बहुत-से तारों या डोरों का समूह, झुप्पा, गुच्छा, एक प्रकार की मैदे की बनी हुई मिठाई, एक प्रकार का घटिया केसर, किसी पदार्थ के सूत की तरह लंबे तथा पतले कटे हुए टुकड़े, तारों की सिकड़ी का बना हुआ एक प्रकार का गहना; -साख-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की संकर रागिणी।

लच्छि-(हिं. पुं.) एक लाख की संख्या, (स्त्री.) लक्ष्मी; -नाथ-(पुं.) लक्ष्मी-पति, विष्णु; -निवास-(पुं.) विष्णु।

लच्छित-(सं. वि.) लक्ष्य किया हुआ, देखा हुआ।

लच्छी-(हिं. पुं.) एक प्रकार का घोड़ा; (स्त्री.) लक्ष्मी, कलावत्त, सूत, रेशम आदि की लपेटी हुई गुच्छी, अंटी।

लच्छेदार-(फा. वि.) लच्छों से युक्त।

लछन-(हिं. पुं.) लक्ष्मण, देखें 'लक्षण'।

लछमन-(हिं. पुं.) देखें 'लक्ष्मण'; -झूला-(पुं.) बदरीनारायण के मार्ग म हृषिकेश के पास बना हुआ लोहे के रस्सों पर लटका हुआ पुल।

लछमी-(हिं. स्त्री.) देखें 'लक्ष्मी'।

लछारा-(हिं. वि.) लंबा।

लज-(हिं. स्त्री.) देखें 'लाज', लज्जा।

लजना-(हिं. क्रि. अ.) लजाना।

लजवाना-(हिं. क्रि. स.) दूसरे को लज्जित करना।

लजाधुर-(हिं. पुं.) लजालू नाम का पौधा; (वि.) लज्जावान।

लजाना-(हिं. क्रि. अ., स.) लज्जित होना या करना।

लजालू, लजाल-(हिं. पुं.) लजाधुर नाम का पौधा जिसकी पत्तियाँ छूने से सिकुड़ या बंद हो जाती हैं।

लजावना-(हिं. क्रि. अ., स.) लजाना।

लजियाना-(हिं. क्रि. स.) लजाना।

लजीज-(अ. वि.) स्वादिष्ट।

लजीला-(हिं. वि.) लज्जायुक्त।

लजूरी-(हिं. स्त्री.) कुएँ से पानी निकालने की रस्सी, लैजुर।

लजोर-(हिं. वि.) लज्जावान।

लजोहा, लजोहाँ, लजोना-(हिं. वि.) लज्जावान, लजीला।

लज्जका-(सं. स्त्री.) वनकपास।

लज्जत-(अ. स्त्री.) स्वाद; -दार-(वि.) स्वादिष्ट।

लज्जा-(सं. स्त्री.) अन्तःकरण को वह भावना जिसके कारण दूसरे के सामने

वृत्तियां संकुचित हो जाती हैं, लाज, मान-मर्यादा; -कर-(वि.) लज्जा उत्पन्न करनेवाला; -प्रद-(वि.) लज्जा उत्पन्न करनेवाला; -प्राया-(स्त्री.) मुग्धा नायिका का एक भेद; -लु-(वि.) लज्जाशील; -वत्,-वान्-(वि.) लजायुर; -वती-(वि. स्त्री.) लज्जाशील (स्त्री.); -शील-(वि.) जो दूसरे से लज्जा करता हो; -शून्य-(वि.) निर्लज्ज; -हीन-(वि.) निर्लज्ज ।

लज्जिका-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।

लज्जित-(सं. वि.) लजाया हुआ ।

लटंग-(हि.पुं.) एक प्रकार का बांस ।

लट-(सं.पुं.) पागल, चोर; (हि.स्त्री.) सिर के बालों का समूह जो नीचे तक लटका रहता है, बालों का गुच्छा, महीन कीड़े जो मनुष्य की आँतों में पड़ जाते हैं, एक प्रकार का बेंत, लपट ।

लटक-(हि. स्त्री.) लटकने की क्रिया या भाव, झुकाव, लचक, ढाल ।

लटकन-(हि.पुं.) नीचे की ओर लटकने की क्रिया या भाव, लुभानेवाली चाल, पगड़ी में लगे हुए रत्नों का गुच्छा, मलखम्भ का एक व्यायाम, लटकनेवाली वस्तु, नाक में पहनने का झुमका, एक वृक्ष जिसके फूलों से लाल रंग निकलता है ।

लटकना-(हि. क्रि. अ.) ऊँचे स्थान से नीचे की ओर (आधार की ओर) झुका रहना, झूलना, टँगना, लचकना, किसी वस्तु का किसी ओर झुकना, दुविधे में पड़ा रहना, किसी काम का बिना पूरा हुए पड़ा रहना, नम्र होना ।

लटकवाना-(हि. क्रि. स.) लटकाने का काम दूसरे से कराना ।

लटका-(हि.पुं.) गति, चाल, किसी शब्द या वाक्य का वारम्बार प्रयोग करना, बनावटी चेष्टा, हावभाव, तन्त्र-मन्त्र की छोटी युक्ति, टोटका, एक प्रकार का चलता गाना, किसी रोग की शान्ति का सूक्ष्म प्रयोग, वातचीत करने का बनावटी ढंग ।

लटकाना-(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु का एक छोर किसी ऊँचे स्थान में बाँधकर नीचे का छोर निराधार रहने देना, आसरे में रखना, काम को पूरा न करके स्थगित रखना, किसी वस्तु को लचकाना या झुकाना, लटकने में प्रवृत्त करना ।

लटकीली-(हि. वि.) झूमता हुआ, बल पाता हुआ, लचकदार ।

लटकू-(हि.पुं.) एक प्रकार का वृक्ष जिसकी जड़ से रंग निकाला जाता है ।

लटकीआ (वा)-(हि. वि.) लटकनेवाला ।

लटजीरा-(हि.पुं.) अपामार्ग, चिचड़ा, एक प्रकार का महीन धान ।

लटना-(हि. क्रि. अ.) थककर गिर जाना, लड़खड़ाना, ढीला पड़ना, शिथिल होना, व्याकुल होना, दुर्बल होना, ललचाना, लुभाना, अनुसक्त होना, लीन होना ।

लटपट (टा)-(हि. वि.) गिरता-पड़ता, लड़खड़ाता हुआ, जो क्रम में न हो, टूटा-फूटा, थककर गिरा हुआ, जिसमें परत पड़ी हो, लेई की तरह गाढ़ा, ढीला, अशक्त, अव्यवस्थित ।

लटपटान-(हि. स्त्री.) लड़खड़ाहट, मनो-हर गति, लचक ।

लटपटाना-(हि. क्रि. अ.) सीधे न चलकर इधर-उधर डग मारते हुए चलना, लड़खड़ाना, अनुसक्त होना, लीन होना, लुभाना, मोहित होना, स्थिर न रहना, डिंगना ।

लटा-(हि. वि.) लोलुप, लंपट, बुरा, पतित, गिरा हुआ, नीच, हीन, तुच्छ ।

लटापटी-(हि. स्त्री.) लटपटाने की क्रिया या भाव, लड़ाई, झगड़ा ।

लटापोट-(हि. वि.) मुग्ध, मोहित ।

लटिया-(हि. स्त्री.) सूत आदिका लच्छा, आँटी ।

लटी-(हि. स्त्री.) बुरी बात, असत्य वार्ता, वेश्या, रंडी, भक्त स्त्री ।

लटुआ-(हि.पुं.) देखें 'लट्टू' ।

लटुक-(हि.पुं.) लकुट का वृक्ष और फल ।

लटुरी-(हि. स्त्री.) देखें 'लटूरी' ।

लटू-(हि.पुं.) देखें 'लट्टू' ।

लटूरी-(हि. स्त्री.) सिर के बालों का लटकता हुआ गुच्छा, अलक, केश ।

लटोरी-(हि.पुं.) एक प्रकार का छोटा वृक्ष जिसके फलों में लसदार गूदा होता है ।

लट्टू-(सं.पुं.) दुष्ट मनुष्य; -पट्टू-(वि.) देखें 'लथथ' ।

लट्टू-(हि.पुं.) गोल आकार का एक खिलौना जिसको सूत लपेटकर जमीन पर फेंककर नचाया जाता है, लट्टू के आकार की कोई वस्तु; (मुहा.) (किसी पर) -होना-मुग्ध होना, आसक्त होना ।

लट्ठ-(हि.पुं.) वड़ी लाठी, सोंटा, वड़ा डंडा; -बंदी-(स्त्री.) खेत की सामान्य नाप जो लट्ठे से की जाय; -बाज-(वि.) लाठी चलानेवाला, वड़ी लाठी

बाँधनेवाला; -बाजी-(स्त्री.) लाठियों की लड़ाई; -मार-(वि.) लट्ठ मारनेवाला, अप्रिय, कठोर, कर्कश ।

लट्ठा-(हि.पुं.) लकड़ी का मोटा लंबा टुकड़ा, खेत नापने का बाँस जो साढ़े पाँच हाथ लंबा होता है, लकड़ी का बल्ला, धरन, लकड़ी का खंभा, मोटा मारकीन ।

लठ-(हि.पुं.) देखें 'लट्ठ' ।

लठियल-(हि. वि.) लाठी बाँधनेवाला ।

लठैल-(हि.पुं.) लाठी चलानेवाला ।

लडंत-(हि. स्त्री.) लड़ाई, सामना ।

लड़-(हि.स्त्री.) पतित, माला, रस्सी का एक तार, फूलों या मंजरियों का गुच्छा ।

लड़कई-(हि.स्त्री.) बाल्यावस्था, लड़कपन ।

लड़कखेल-(हि.पुं.) बालकों का खेल, अति सहज कार्य ।

लड़कपन-(हि.पुं.) बाल्यावस्था, लड़कों की चंचलता, चपलता ।

लड़कबुद्धि-(हि. स्त्री.) बालकों के समान बुद्धि ।

लड़का-(हि.पुं.) अल्प अवस्था का मनुष्य, बालक, पुत्र, बेटा; -बाला-(पुं.) परिवार, पुत्र-कलत्र आदि, सन्तति ।

लड़की-(हि. स्त्री.) छोटी अवस्था की स्त्री, कन्या, बालिका, बेटि; -बाला-(पुं.) कन्या का पिता या संबंधी ।

लड़कोर (री), लड़कौरी-(हि. वि. स्त्री.) जिस स्त्री की गोद में लड़का हो ।

लड़खड़ाना-(हि. क्रि. अ.) हिलना-डुलना, डगमगाकर गिरना, झोका खाकर नीचे आ जाना ।

लड़खड़ी-(हि. स्त्री.) डगमगाहट ।

लड़ना-(हि. क्रि. अ.) मारनेवाले शत्रु पर आघात पहुँचाना, झगड़ा करना, मिड़ना, मल्लयुद्ध करना, एक-दूसरे को कठोर शब्द कहना, दो वस्तुओं का परस्पर टक्कर खाना, वादविवाद करना, लक्ष्य पर पहुँचना, टकराना, एक-दूसरे को गिराने का प्रयत्न करना, (विच्छू, मिड़ आदि का) डंक मारना ।

लड़बड़ाना-(हि.क्रि.अ.) देखें 'लड़खड़ाना' ।

लड़बावरा (ला)-(हि. वि.) मूर्खता से पूर्ण, गँवार, अल्हड़, अनाड़ी ।

लड़ाई-(हि. स्त्री.) एक-दूसरे पर चोट पहुँचाने की क्रिया या भाव, वाद-विवाद, मल्लयुद्ध, संग्राम, युद्ध, परस्पर कठोर शब्दों का व्यवहार, कलह, झगड़ा, विरोध, अनवन, वैर, मुकदमे में सफलता प्राप्त करने के लिये एक-दूसरे

के विरुद्ध प्रयत्न, संघर्ष ।

लड़ाका, लड़ाकू—(हि. वि.) लड़नेवाला, योद्धा, सैनिक, झगड़ाल ।

लड़ाना—(हि. क्रि. स.) दूसरे को लड़ने में प्रवृत्त करना, लड़ने का काम दूसरे से कराना, कलह के लिये दूसरे को उद्यत करना, लक्ष्य पर पहुँचाना, किसी स्थान पर फेंकना, भिड़ाना, सफलता प्राप्त करने के लिये सोच-विचार करना, लाड़-प्यार करना ।

लड़ायता—(हि. वि.) लड़ाई करनेवाला ।

लड़ी—(हि. स्त्री.) देखें 'लड़', पंक्ति ।

लड़ुआ, लड़ुवा—(हि. पुं.) मोदक, लड़ू ।

लड़ता—(हि. वि.) प्रिय, प्यारा, लाड़ला, दुलारा, घृष्ट, लड़नेवाला, योद्धा ।

लड़ू—(हि. पुं.) गेंदके आकार की मिठाई, मोदक; (मुहा.) मन के लड़ू खाना—सुख की व्यर्थ कल्पनाएँ करना ।

लड़वाना—(हि. क्रि. स.) प्रेम करना ।

लड़वत—(हि. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।

लड़िया—(हि. स्त्री.) बैलगाड़ी ।

लत—(हि. स्त्री.) किसी बुरी बात का अभ्यास, दुर्व्यसन, बुरी टेव ।

लतखोर, लतखोरा—(हि. वि.) वह जो सर्वदा लत खाता हो, सर्वदा ऐसा काम करनेवाला जिसके कारण मार खानी पड़े या गाली सुननी पड़े, नीच, दुष्ट, दास, द्वार पर रखा हुआ पैर पोंछने का टाट ।

लतड़ी—(हि. स्त्री.) एक मोटा अन्न, एक प्रकार की जूती जिसमें बहुत हलका तल्ला होता है ।

लतपत—(हि. वि.) देखें 'लथपथ' ।

लतमर्दन—(हि. पुं.) पैरों से रौंदने की क्रिया, लातों की मार ।

लतर—(हि. स्त्री.) बल, वल्ली, लता ।

लतरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा अन्न ।

लतरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की घास या पौधा, इसकी फली, मोट, खेसारी, एक प्रकार की जूती ।

लता—(सं. स्त्री.) वह पौधा जो पृथ्वी पर फैलता है अथवा किसी वस्तु के साथ लिपटकर ऊपर को चढ़ता है, वल्ली, बेल, कोमल शाखा, माधवी, सुन्दर स्त्री, एक अप्सरा का नाम, एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में अठारह अक्षर होते हैं;—कर—(पुं.) नाचने में हाथ हिलाने का एक ढंग;—कुंज—(पुं.) लताओं से आच्छादित स्थान;—गूह—(पुं.) लता मंडप;—जिह्व—(पुं.) सर्प, साँप;—पता—(पुं.) पेड़-पौधों का समूह,

जड़ी-बूटी;—पर्ण—(पुं.) विष्णु;—पर्णी—(स्त्री.) सौंफ;—फल—(पुं.) परवल;—भवन—(पुं.) लताओं का कुंज;—मंडप—(पुं.) लतागूह, लतामंडल;—मंडल—(पुं.) लताओं से आच्छादित स्थान;—मणि—(पुं.) प्रवाल, मूंगा;—मृग—(पुं.) शाखामृग, बंदर;—यावक—(पुं.) प्रवाल, मूंगा;—रसन—(पुं.) सर्प, साँप;—बलय—(पुं.) देखें 'लतागूह';—वृक्ष—(पुं.) सलई का वृक्ष;—वैष्टन—(पुं.) एक प्रकार का आलिंगन;—वैष्टित—(पुं.) एक प्रकार का आलिंगन; (वि.) लताओं से आच्छादित ।

लताड़ना—(हि. क्रि. स.) पैरों से कुचलना, लात मारना, थकाना, व्यग्र करना ।

लतार्क—(सं. पुं.) प्याज का पौधा ।

लतालक—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी ।

लतिका—(सं. स्त्री.) छोटी लता, बेल ।

लतिपर, लतियल—(हि. वि.) जो सर्वदा लात खाता हो, लतखोर ।

लतियाना—(हि. क्रि. स.) पैरों से रौंदना, लात मारना ।

लतिहर, लतिहल—(हि. वि.) लतखोर ।

लतीफा—(अ. पुं.) हास्यपूर्ण चुटकुला ।

लता—(हि. पुं.) फटा-पुराना वस्त्र, चिथड़ा, कपड़े का टुकड़ा; कपड़ा-लता—(पुं.) पहिनने के वस्त्र ।

लत्ती—(हि. स्त्री.) पशुओं की लात मारने की क्रिया, कपड़े की लंबी धज्जी, पतंग का पुल्लला ।

लथपथ—(हि. वि.) जो भीगकर तर हो गया हो, सना हुआ ।

लथाड़—(हि. स्त्री.) भूमि पर पटककर घसीटने की क्रिया, झिड़की, हानि ।

लथाड़ना, लथेड़ना—(हि. क्रि. स.) कीचड़ आदि पोतकर गंदा करना, भूमि पर पटककर घसीटना, हराना, मल्ल-युद्ध में पछाड़ना, शिथिल करना, थकाना, झिड़कियाँ सुनाना, डाँटना ।

लदान—(हि. स्त्री.) लदाव ।

लदाना—(हि. क्रि. अ.) बोज से भरना, परिपूर्ण होना, ऊपर तक भर जाना, (सामान ढोनेवाली गाड़ी का) वस्तुओं से भरा जाना, बोज रखा जाना, बंदी होना, परलोक सिंघारना, मर जाना ।

लवलद—(हि. अव्य.) किसी गीली वस्तु के गिरने के शब्द का अनुकरण ।

लदवाना—(हि. क्रि. स.) लदाने का काम दूसरे से कराना ।

लदाऊ—(हि. पुं.) देखें 'लदाव' ।

लदाना—(हि. क्रि. स.) लदाने का काम दूसरे से कराना ।

लदाफेंदा—(हि. वि.) बोज से भरा हुआ ।

लदाव—(हि. पुं.) लदाने की क्रिया या भाव, मार, बोज, वह छत जिसकी ईंटों की जोड़ाई बिना धरन या कड़ी के आधार पर हो ।

लदुआ (वा), लदू—(हि. वि.) बोज ढोनेवाला, जिस पर भार लादा जाय ।

लदुड़—(हि. वि.) सुस्त, आलसी;—पत—(पुं.) सुस्ती ।

लद्वना—(हि. क्रि. स.) प्राप्त करना, पाना ।

लना—(हि. पुं.) एक वृक्ष जिससे सज्जी निकाली जाती है ।

लनी—(हि. स्त्री.) पान की क्यारी ।

लप—(हि. पुं.) एक प्रकार की घास, अंजली, अंजली भर वस्तु, लचीली वस्तु को पकड़कर हिलाने से उत्पन्न शब्द; तलवार, छुरे आदि की चमक की गति ।

लपक—(हि. स्त्री.) ज्वाला, लपट, लपट की तरह निकलनेवाली चमक, कान्ति, तेजी, वेग ।

लपकना—(हि. क्रि. अ.) वेग से चलना, दौड़ पड़ना, झपटना, किसी वस्तु को लेने के लिये झट से हाथ फलाना; लपककर—(अव्य.) वड़े वेग से ।

लपकी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की सीधी सिलाई ।

लपक्षप—(हि. वि.) चंचल, चपल, अधीर ।

लपट—(हि. स्त्री.) अग्नि की ज्वाला, वायु में फैली हुई गरमी, गंध, किसी प्रकार की गंध से पूरित हवा का झोंका ।

लपटना—(हि. क्रि. अ.) अंगों से सटना, आलिंगन करना, उलझना, लिपटना, फँसना, घिरा जाना, लगा रहना ।

लपटा—(हि. पुं.) कोई गाड़ी गीली वस्तु, कढ़ी, लेई, लपसी ।

लपटाना—(हि. क्रि. अ., स.) गले लगाना, आलिंगन करना, घेरना, लपेटना, सटना, सटाना, उलझना, उलझाना ।

लपटौवा, लपटौना—(हि. पुं.) एक प्रकार की घास जिसकी बाल कपड़ों में लिपट जाती और कठिनाई से छूटती है; (वि.) चिपटनेवाला ।

लपन—(सं. पुं.) मुख, भाषण, कथन ।

लपना—(हि. क्रि. अ.) लचीली वस्तु का झुकना, लचना, लपकना, ललचना ।

लपलपाना—(हि. क्रि. अ.) झोंक के साथ

इधर-उधर लचना, किसी कोमल वस्तु का हिलना, तलवार, छुरी आदि का चमकना ।

लपलपाहट—(हि. स्त्री.) लपलपाने की क्रिया, प्रकाश की चमक, झलक ।

लपसी—(हि. स्त्री.) थोड़ा घी डालकर बनाया हुआ हलवा, पानी में औटाया हुआ आटा, कोई गीली गाढ़ी वस्तु ।

लपहा—(हि.पुं.) पान की लता में लगने-वाला एक रोग ।

लपाना—(हि. क्रि. स.) लचीली वस्तु को झोंक से इधर-उधर फटकारना, आगे बढ़ाना, पतली छड़ी आदि डुलाना ।

लपित—(सं. वि.) कहा हुआ, कथित ।

लपेट—(हि. स्त्री.) लपेटने की क्रिया या भाव, गठरी बाँधने में कपड़े की तह या मोड़, बाँधने की डोरी आदि का फेरा, ऐंठन, मरोड़, उलझन, फँसाव, पकड़, बंधन, मल्लयुद्ध की एक युक्ति, जाल, चक्कर ।

लपेटन—(हि.स्त्री.) लपेटने की क्रिया या भाव, लपेट, ऐंठन, मरोड़, उलझन, फँसाव; (पुं.) बाँधने का कपड़ा, बैठन, लपेटनी, लपेटने का बेलन, पैरों में उलझनेवाली वस्तु ।

लपेटना—(हि. क्रि. स.) किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के चारों ओर घुमाकर बाँधना, घुमाव या फेरे के साथ चारों ओर फँसाना, फैली हुई वस्तु को गूँठर के रूप में करना, परिवेष्टित करना, पकड़ में करना, कपड़े आदि में रखकर बाँधना, उलझन में डालना, फँसाना, लेप करना, पीतना, गति बंद करना ।

लपेटनी—(हि. स्त्री.) जुलाहे का तुर या लपेटन ।

लपेटवाँ—(हि. वि.) लपेटा हुआ, जो लपेटा जा सके, जिसमें सोने-चाँदी के तार लपेटे हों, लपेटकर बनाया हुआ, घुमाव-फिराव का, गूढ़ अर्थ का ।

लप्पा—(हि. पुं.) छत की धरन के नीचे लगाई हुई लकड़ी ।

लप्सिका—(सं. स्त्री.) लपसी ।

लफंगा—(फा. वि.) लंपट, व्यभिचारी ।

लफना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'लपना' ।

लफलफानि—(हि. स्त्री.) चमक ।

लफाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'लपाना' ।

लज्ज—(अ. पुं.) गव्द, वात ।

लज्ज—(फा. पुं.) ओंठ ।

लज्जुवाँ—(हि. स्त्री.) झूठमूठ का कोलाहल, क्रम और व्यवस्था का अभाव,

गड़बड़ी, अन्याय, अनीति ।

लवङ्गना—(हि. क्रि. अ.) झूठ बोलना, गप हाँकना ।

लवदा—(हि. पुं.) मोटा भद्दा डंडा ।

लवदी—(हि. स्त्री.) छोटी पतली छड़ी ।

लवनी—(हि. स्त्री.) मिट्टी की लंबी हाँड़ी जो ताड़ी एकत्र होने के लिये ताड़ के पेड़ में बाँधी जाती है ।

लवरा—(हि. वि.) झूठ बोलनेवाला, गप हाँकनेवाला ।

लवरी—(हि.वि.स्त्री.) झूठ बोलनेवाली ।

लवादा—(फा.पुं.) पहनने का लंबा चोगा ।

लवार—(हि. वि.) मिथ्यावादी, झूठ बोलनेवाला, गप्पी ।

लवारी—(हि. स्त्री.) झूठ बोलने का काम; (वि.) झूठा, चुगलखोर ।

लवालव—(फा. अव्य.) वरतन आदि के मुख तक (भरा हुआ) ।

लबी—(हि. स्त्री.) ऊख का पका हुआ गाढ़ा रस, राव ।

लवेद—(हि. पुं.) वेद के विरुद्ध वचन, दन्तकथा, लोकाचार ।

लवेदा—(हि. पुं.) मोटा बड़ा डंडा ।

लवेदी—(हि.स्त्री.)मोटा छोटा डंडा, लाठी ।

लव्व—(सं. वि.) प्राप्त, पाया हुआ, उपाजित, कमाया हुआ, गणित में भाग करने से प्राप्त फल; -काम-

(वि.) जिसकी मनोकामना पूरी हो गई हो; -कीर्ति—(वि.) प्रख्यात, प्रसिद्ध; -चेतन—(वि.) जिसने पुनः चेतना प्राप्त की हो; -जन्म—(वि.) जिसने जन्म लिया हो; -घन—(वि.) घनवान; -नाम—(पुं.) प्रसिद्ध;

-नाश—(पुं.) प्राप्त घन का नाश;

-प्रतिष्ठ—(वि.) प्रतिष्ठित; -लक्ष—(वि.) जिसका निशाना ठीक लगे;

-वर—(वि.) जिसने वर प्राप्त किया हों; -वण—(वि.) विद्वान्, पंडित;

-विद्य—(वि.) पण्डित; -व्य—(वि.) प्राप्त करने योग्य; -शब्द—(वि.) प्रसिद्ध, प्रख्यात; -सिद्धि—(वि.) जिसने सिद्धि पाई हो ।

लव्वांक—(स. पुं.) गणित में भाग करने पर जो अंक प्राप्त हो, भाग-फल ।

लव्वा—(सं. स्त्री.) विप्रलव्वा नायिका ।

लव्वावकाश, लव्वावसर—(सं.वि.) जिसने अवकाश या छुट्टी पाई हो ।

लव्वि—(सं. स्त्री.) लाम, प्राप्ति, भाग देने पर प्राप्त संख्या, भाग-फल ।

लव्वोदय—(सं. वि.) सीमाग्यशील ।

लभन—(सं. पुं.) प्राप्ति ।

लभस—(सं.पुं.) थोड़े कीटांग बाँधने की रस्ती

लभ्य—(सं.वि.) न्यायपूर्ण, उचित, पाने योग्य ।

लभक—(सं. पुं.) उपपत्ति, जार, लपट ।

लभकना—(हि. क्रि. अ.) उत्कण्ठित होना, लपकना ।

लभगजा—(हि. पुं.) इकतारा ।

लभघिचा—(हि.वि.) लंबी गरदनवाला ।

लभचा—(हि.पुं.) एक प्रकार की वरसाती घास ।

लभछड़—(हि. वि.) लंबा और पतला;

(पुं.) पुरानी चाल की लंबी बंदूक ।

लभछुआ—(हि. वि.) जो आकार में कुछ लंबा हो ।

लभजक—(हि.पुं.) ज्वरांकुश नाम की घास ।

लभटंगा—(हि. वि.) लंबी टाँगवाला;

(पुं.) सारस पक्षी ।

लमतङ्ग—(हि.वि.) बहुत तगड़ा तथा ऊँचा ।

लमधी—(हि. पुं.) समधी का पिता ।

लमाना—(हि. क्रि. अ.) दूर चला जाना,

लंबा होना, आगे या दूर तक बढ़ जाना ।

लय—(सं. पुं.) विनाश, लोप, प्रलय,

सन्तोष, संश्लेष, एक वस्तु का दूसरे

में मिल जाना, संगीत में नाच-गान और

वजाने का मेल, एक पदार्थ का दूसरे में

घुसना या मिलना, गाने का ढंग, वह

आरोह या अवरोह जो संगीत के स्वर के

निकलन में होता है, विश्राम, स्थिरता,

मूर्च्छा, गूढ़ अनुराग, लगन, चित्त की

वृत्तियों का सब ओर से हटकर एक

ओर लगना, तद्रूप होना ।

लयन—(सं. पुं.) विश्राम, शान्ति ।

लर—(हि. स्त्री.) देखें 'लड़' ।

लरकई—(हि. स्त्री.) लड़कपन ।

लरकना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'लटकना' ।

लरकिनी—(हि. स्त्री.) देखें 'लड़की' ।

लरखर(रा)ना—(हि.क्रि.अ.) लड़खड़ाना ।

लरजना—(हि. क्रि. अ.) हिलना, कांपना,

भयभीत होना ।

लरझर—(हि. वि.) प्रचुर, बहुत अधिक ।

लरना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'लड़ना' ।

लरनि—(हि. स्त्री.) लड़ाई, झगड़ा ।

लराई—(हि. स्त्री.) लड़ाई ।

लरिर्कई—(हि. स्त्री.) लड़कपन ।

लरिका-सलोरी—(हि. स्त्री.) लड़कपन ।

लरिका—(हि.पुं.) देखें 'लड़का'; -ई-

(स्त्री.) लड़कपन ।

लरी—(हि. स्त्री.) देखें 'लड़ी' ।

लर्ज—(हि. पुं.) सितार में लगे हुए पीतल

के तार का नाम ।

ललक—(हि. स्त्री.) प्रवल इच्छा, गहरी चाह।

ललकना—(हि. क्रि. अ.) किसी वस्तु को प्राप्त करने की गहरी इच्छा होना, ललचना, उमंग से मर जाना।

ललकार—(हि. स्त्री.) युद्ध के लिये उच्च स्वर से पुकारना, लड़ने के लिये बढ़ावा।

ललकारना—(हि. क्रि. स.) युद्ध के लिये प्रतिद्वन्द्वी को उच्च स्वर से आह्वान करना, हाँक लगाना, लड़ने के लिये बढ़ावा देना, उत्साहित करना।

ललाक—(सं. पुं.) शिश्न, लिंगेन्द्रिय।

ललाट—(सं. पुं.) मस्तक, माथा, भाग्य का लेख; -क—(पुं.) चौड़ा ललाट;

-पटल—(पुं.) मस्तक का तल; -रेखा—(स्त्री.) कपाल का लेख, भाग्यलेख।

ललाटाक्ष—(सं. पुं.) शिव, महादेव।

ललाटाक्षी—(सं. स्त्री.) दुर्गा।

ललाटिका—(सं. स्त्री.) मस्तक पर का टीका, माथे पर पहनने का एक आभूषण।

ललाटूल—(सं. वि.) जिसका ललाट ऊँचा हो।

ललाना—(हि. क्रि. अ.) ललचना।

ललाम—(सं. वि.) सुन्दर, मनोहर, लाल, प्रधान, श्रेष्ठ; (पुं.) चित्त, सींग, अलंकार, गहना, घोड़े या शेर की गरदन पर के बाल, घोड़ा, प्रभाव, रत्न।

ललामक—(सं. पुं.) मस्तक पर लपेटने की माला।

ललामगु—(सं. पुं.) शिश्न, लिंगेन्द्रिय।

ललामन्—(सं. पुं.) ललाम।

ललामी—(सं. स्त्री.) कान में पहनने का एक आभूषण; (हि. स्त्री.) सुन्दरता, शोभा, लालिमा।

ललित—(सं. पुं.) शृंगार रस में वह अंग-चेष्टा जिसमें सुकुमारता के साथ हाथ, पैर, भौं, आँख आदि अंग संचालित किये जाते हैं, एक विषम वर्णवृत्त का नाम; (वि.) मनोहर, सुन्दर, मनचाहा, चलित, हिलता हुआ; -कला—(स्त्री.) वह कला या विद्या जिसको व्यक्त करने में सौन्दर्य की अभिव्यक्ति होती है; -कांता—(स्त्री.) पार्वती, दुर्गा; -चैत्य—(पुं.) एक प्रकार का सुन्दर मन्दिर; -ताल—(पुं.) संगीत में एक प्रकार का ताल; -पद—(पुं.) एक मात्रिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में अट्ठाईस मात्राएँ होती हैं; -प्रहार—(पुं.) हलका प्रहार; -प्रिय—(पुं.) संगीत का एक ताल; -लोचन (वि.) सुन्दर नेत्रोंवाला; -वनिता—(स्त्री.) सुन्दर स्त्री।

ललिता—(सं. स्त्री.) कस्तूरी, राविका की प्रधान आठ सखियों में से एक, एक रागिनी का नाम, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में बारह अक्षर होते हैं; -पंचमी—(स्त्री.) आश्विन शुक्ला पंचमी जिस दिन ललिता देवी (पार्वती) का पूजन होता है।

ललितोपमा—(सं. स्त्री.) एक अर्थालंकार जिसमें उपमेय और उपमान की समता जताने के लिये सम, समान, तुल्य आदि शब्दों का व्यवहार न करके ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनसे बराबरी, मित्रता, निरादर आदि का भाव प्रकट हो।

लली—(हि. स्त्री.) लड़की या नायिका के लिये प्रेम का शब्द, प्रेमिका, दुलारी लड़की।

ललौहाँ—(हि. वि.) ललाई लिये हुए।

लल्ला—(हि. पुं.) देखें 'लला'।

लल्लो—(हि. स्त्री.) जिह्वा, जीभ।

लल्लोचप्पो, लल्लोपत्तो—(हि. स्त्री.) चिकनी-चुपड़ी बातें जो केवल किसी को प्रसन्न करने के लिये कही जायँ, ठकुर-सुहाती।

लवंग—(सं. पुं.) एक वृक्ष जिसकी कली मसाले के काम में आती है, लौंग; -लता—(स्त्री.) राविका की एक सखी का नाम, समोसे के आकार की एक प्रकार की मिठाई।

लव—(सं. पुं.) लवंग, बहुत अल्प मात्रा, लेश, विनाश, कटाई, छत्तीस निमेष का अल्प समय, पशु के शरीर के रोयें, सुरा-गाय की पूँछ के बाल, श्रीरामचन्द्र के दो यमज पुत्रों में से एक का नाम, (दूसरे का नाम कुश था)।

लवण—(सं. पुं.) नमक, नोन, देखें 'लवणासुर'; -क्षार—(पुं.) खारी नमक; -खनि—(स्त्री.) नमक की खान; -जल—(पुं.) खारा पानी, वह जल जिसमें नमक मिला हो; -जलधि—(पुं.) सागर, समुद्र; -ता—(स्त्री.) नमकीन स्वाद, लवण का भाव या धर्म; -तुण—(पुं.) लोनिया साग; -तौय—(पुं.) सागर, समुद्र; -त्व—(पुं.) देखें 'लवणता'; -मद—(पुं.) खारी नमक; -समुद्र—(पुं.) खारे पानी का समुद्र जो पुराणों के अनुसार सात समुद्रों में से एक माना जाता था।

लवणा—(सं. स्त्री.) दीप्ति, आभा।

लवणाकर—(सं. पुं.) नमक की खान।

लवणाविवि—(सं. पुं.) खारे पानी का समुद्र।

लवणार्णव—(सं. पुं.) खारे पानी का समुद्र। लवणासुर—(सं. पुं.) मवु नामक दैत्य का पुत्र जिसको शत्रुघ्न ने मारा था।

लवन—(सं. पुं.) छेदन, काटना, खेत की उपज की कटाई, अन्न जो खेत की कटाई की मजदूरी में दिया जाय, लुनाई, लौनी।

लवना—(हि. क्रि. स.) पकी हुई फसल को काटकर इकट्ठा करना, लुनना।

लवनी—(हि. स्त्री.) लुनाई, अन्न काटने की मजदूरी, मक्खन।

लवर—(हि. स्त्री.) अग्नि की लपट या ज्वाला।

लवलासी—(हि. स्त्री.) प्रेम का संबंध।

लवसी—(सं. स्त्री.) हरफारेवड़ी नामक वृक्ष और उसका फल, एक विषम वर्णवृत्त का नाम।

लवलोन—(हि. वि.) तन्मय, निमग्न।

लवलेश—(हि. पुं.) अत्यन्त थोड़ी मात्रा, थोड़ा संबंध।

लवा—(हि. पुं.) तीतर की जाति का एक पक्षी।

लवाई—(हि. वि.) (वह गाय) जिसका बछ्वा अभी बहुत छोटा हो; (स्त्री.) खेत की उपज की कटाई, लवने का पारिश्रमिक

लवारा—(हि. पुं.) गाय का बछ्वा।

लवासी—(हि. वि.) बकवादी, गप्प हाँकनेवाला।

लवित्र—(सं. पुं.) हँसिया।

लव्य—(सं. वि.) काटने योग्य।

लशकारना—(हि. क्रि. स.) शिकारी कुत्तों को ललकारना।

लशुन—(सं. पुं.) लहसुन।

लशकर, लशकर—(फा. पुं.) सेना का बड़ा समूह, सैनिक विभाग या मुहकमा।

लशकरी—(फा. वि.) लशकर-संबंधी।

लषण—(सं. पुं.) वांछा, चाह।

लषना—(हि. क्रि. स.) देखें 'लसना'।

लस—(हि. पुं.) चिपकने या सटने का गुण, चिपकनेवाली वस्तु, लासा, चित्ताकर्षण।

लसक—(सं. पुं.) नर्तक, नाचनेवाला।

लसदार—(फा. वि.) लस से युक्त।

लसना—(हि. क्रि. अ., स.) चिपकाना, सटाना, शोभित होना, विराजना।

लसनि—(हि. स्त्री.) स्थिति, शोभा, छटा, सुन्दरता।

लसन—(हि. वि.) जो खरा न हो, झुपित।

लसलसना—(हि. वि.) लसदार, चिपचिपा।

लसलसानी—(हि. क्रि. अ.) चिपकाना, चिपचिपाना।

लसलसाहट—(हिं. स्त्री.) लसदार होने का भाव या गुण ।

लसा—(सं. स्त्री.) हरिद्रा, हल्दी ।

लसिका—(सं. स्त्री.) लार, थूक ।

लसित—(सं. वि.) शोभित ।

लसी—(हिं. स्त्री.) लसलसाहट, आकर्षण, संबंध, लगाव, लाभ, दही, चीनी और बर्फ मिला हुआ पेय ।

लसीका—(सं. स्त्री.) ईख का रस, मांस और चमड़े के बीच होनेवाला रस या पानी ।

लसीला—(हिं. वि.) लसदार, चिपचिपा, सुन्दर ।

लसुन—(हिं. पुं.) देखें 'लशुन' ।

लसुनिया—(हिं. पुं.) देखें 'लहसुनिया' ।

लसोड़ा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का छोटा वृक्ष जिसमें बर के समान गोल फल औषधों में प्रयुक्त होते हैं ।

लसौटा—(हिं. पुं.) बहेलिया का लासा रखने का बाँस का चाँगा ।

लस्टम-पस्टम—(हिं. अव्य.) किसी-किसी प्रकार से ।

लस्त—(सं. वि.) क्रीडित, सजावट से भरा हुआ; (हिं. वि.) अशक्त, शिथिल, थका हुआ, साहसहीन ।

लस्ती—(हिं. स्त्री.) लस, चिपचिपाहट, छाछ, मठा, लसी नामक पेय ।

लहंगा—(हिं. पुं.) स्त्रियों का कमर के नीचे का भाग ढाँपने का घेरादार पहनावा, धाँघरा ।

लहक—(हिं. स्त्री.) लहकने की क्रिया का भाव, चमक, आग की लपट, छवि, शोभा ।

लहकना—(हिं. क्रि. अ.) आग का दहकना, झोंके से लहराना, वायु का वहना, उत्कंठित होना, चाह से आगे बढ़ना ।

लहकाना—(हिं. क्रि. स.) हवा में इधर-उधर हिलाना-डोलाना, झोंका देना, उत्साह देकर आगे बढ़ाना, भड़काना, ताव दिलाना, लपकाना ।

लहकारना—(हिं. क्रि. स.) किसी के विरुद्ध कुछ करने के लिये ताव दिलाना, ललकारना ।

लहकौर, लहकौरि—(हिं. स्त्री.) विवाह की वह रीति जिसमें दुलहा-दुलहिन एक-दूसरे के मुँह में कौर डालते हैं ।

लहन—(हिं. पुं.) कंजा नाम की झाड़ी ।

लहना—(हिं. क्रि. अ.) प्रयत्न करना, पाना; (पुं.) उधार दिया हुआ धन, किसी कारण मिलनेवाला धन, भाग्य ।

लहनी—(हिं. स्त्री.) प्राप्ति, फल, भोग, उठरों का पात्र छीलने का उपकरण ।

लहवर—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बहुत लंबा ढीला-ढाला पहनावा, चोगा, झंडा, लंबी गरदनवाला एक प्रकार का तोता ।

लहर—(हिं. स्त्री.) हवा के झोंके से आन्दोलित होनेवाला जल का तल, हिलोरा, उमंग, टेढ़ी-मेढ़ी रेखा, हवा का झोंका, वायु में उत्पन्न होनेवाली शब्द की गूँज, वक्र गति, मन की मौज, शरीर में रह-रहकर होनेवाली पीड़ा या बेहोशी; आनन्द की उमंग; (मुहा.)—आना-मौज आना, साँप के काटने पर शरीर में लहर उठना ।

लहरदार—(फा. वि.) लहर या वक्र रेखाओं से युक्त ।

लहरना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'लहराना' ।

लहरपटोर—(हिं. पुं.) पुरानी चाल का एक प्रकार का लहरियादार रेशमी कपड़ा ।

लहरा—(हिं. पुं.) लहर, तरंग, मौज, गाने के पहले ताल और स्वर मिलाना ।

लहराना—(हिं. क्रि. अ., स.) वायु के वेग से इधर-उधर हिलना-डुलना, टेढ़े-मेढ़े ले जाना, हलकोरा लेना, विराजना, शोभित होना, उत्कंठित होना, लहरें उठना, मन में उमंग होना, लपकना, आग का दहकना, भड़कना, हिलाना-डुलाना ।

लहरिया—(हिं. पुं.) टेढ़ी-मेढ़ी समानान्तर रेखाओं का समूह, एक प्रकार का कपड़ा जिसमें रंग-विरंगी टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ बनी होती हैं, ऐसे वस्त्र की बनी हुई साड़ी, देखें 'लहर' ।

लहरियादार—(फा. वि.) जिसमें लहरिया या टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ बनी हों ।

लहरी—(सं. स्त्री.) लहर, तरंग; (वि.) तरंगी, मनमौजी ।

लहल—(हिं. पुं.) एक प्रकार का राग ।

लहलह—(हिं. वि.) लहलहाता हुआ, आनन्द से फूला हुआ ।

लहलहा—(हिं. वि.) लहलहाता हुआ, आनन्दी, हृष्टपुष्ट ।

लहलहाना—(हिं. क्रि. अ.) हराभरा या पतियों से भरा होना, दुर्बल शरीर का फिर से मोटा होना, प्रफुल्ल होना, सूखे पेड़-पौधों में नई पतियाँ निकलना ।

लहसुन—(हिं. पुं.) एक पौधा जिसकी जड़ में इसके फल के दाने पंक्तिबद्ध होते हैं ।

लहसुनिया—(हिं. पुं.) घूमिल रंग का एक बहुमूल्य रत्न;—हॉग—(स्त्री.) एक प्रकार की बनावटी हींग ।

लहा—(हिं. पुं.) देखें 'लाह' ।

लहाछेह—(हिं. पुं.) नाच की एक गति ।

लहालह—(हिं. वि.) देखें 'लहलहा' ।

लहालोट—(हिं. वि.) हँसी में लोटता हुआ, हँसी में मग्न, प्रेम में मग्न, मोहित, आनन्दविभोर ।

लहास—(हिं. स्त्री.) शव ।

लहासी—(हिं. स्त्री.) नाव या जहाज बाँधने की मोटी रस्सी ।

लहि—(हिं. अव्य.) पर्यन्त, तक ।

लहु—(हिं. अव्य.) देखें 'लौ' ।

लहुरा—(हिं. वि.) वय या उम्र में छोटा ।

लहु—(हिं. वि.) रक्त, रधिर; (मुहा.)—हौना-रधिर से रंग जाना ।

लहेरा—(हिं. पुं.) छोटे आकार का एक सदावहार वृक्ष, लाह की चूड़ी बनाकर बेचनेवाला ।

लाँक—(हिं. स्त्री.) कटि, कमर ।

लाँग—(हिं. स्त्री.) धोती का वह भाग जो कमर के पीछे की ओर खोसा जाता है, काछ ।

लाँगल—(सं. पुं.) खेत जोतने का हल, शिशन, ताल का वृक्ष, एक प्रकार का फूल;—कौ—(स्त्री.) कलियारी नामक विपैला पौधा;—ग्रह—(पुं.) किसान, हलवाहा;—ग्रहण—(पुं.) हल जोतना;—चक्र—(पुं.) फलित ज्योतिष का एक प्रकार का चक्र;—दंड—(पुं.) हरिस;—ध्वज—(पुं.) बलराम;—पद्धति—(स्त्री.) हल जोतने से बनी हुई रेखा ।

लाँगलि—(सं. पुं.) मजीठ, गजपीपल, केवाँच, चव्य ।

लाँगलिक—(सं. पुं.) एक प्रकार का स्थावर विष ।

लाँगलिकी—(सं. स्त्री.) कलियारी नामक पौधा ।

लाँगली—(सं. पुं.) बलराम, नारियल; (स्त्री.) मजीठ, गजपीपल ।

लाँगल लाँगल—(सं. पुं.) पूँछ, शिशन ।

लाँगली—(सं. पुं.) बंदर, केवाँच ।

लाँघना—(हिं. क्रि. स.) किसी वस्तु के इस पार से उस पार जाना, किसी वस्तु को उछलकर पार करना, डाँकना ।

लाँघनी उड़ी—(हिं. स्त्री.) मलखंभ का एक व्यायाम ।

लाँच—(हिं. स्त्री.) उत्कोच, घूस ।

लाँछन—(सं. पुं.) चित्त, धव्वा, दोष, कलंक ।

लाँछना—(सं. स्त्री.) देखें 'लाँछन' ।

लाँछित—(सं. वि.) कलंकित ।

लाइ—(हिं. स्त्री.) लुक, अग्नि ।

लाइक—(हिं. वि.) लायक, योग्य ।

लाइची—(हिं. स्त्री.) देखें 'इलायची' ।

लाई—(हिं. स्त्री.) धान का लावा, लाजा, चुगली, ऊनी चादर, एक प्रकार का रेशमी कपड़ा;—लुत्तरी—(स्त्री.) चुगली।
 लाऊ—(हिं. पुं.) लौकी, घिया।
 लाकड़ी—(हिं. स्त्री.) देखें 'लकड़ी'।
 लाकिनी—(सं. स्त्री.) तन्त्र के अनुसार एक योगिनी का नाम।
 लाक्षकी—(सं. स्त्री.) सीता का नाम।
 लाक्षण—(सं. वि.) लक्षण-संबंधी।
 लाक्षणिक—(सं. पुं.) वह जो लक्षणों को जानता हो, वह छन्द जिसके प्रत्येक चरण में वत्तीस मात्राएँ होती हैं; (वि.) लक्षण-संबंधी।
 लाक्षण्य—(सं. वि.) लक्षण जाननेवाला।
 लाक्षा—(सं. स्त्री.) लाख, लाह;—गृह—(पुं.) लाख का वह घर जिसको दुर्घो-घन ने पाण्डवों को जला देने की इच्छा से बनवाया था;—सूर्य—(पुं.) पलाश का वृक्ष;—रस—(पुं.) महावर;—वृक्ष—(पुं.) पलाश का वृक्ष।
 लाक्षिक—(सं. वि.) लाख का बना हुआ।
 लाक्षमण—(सं. पुं.) लक्ष्मण के गोत्र की सन्तान।
 लाख—(हिं. वि.) सौ हजार, बहुत अधिक; (पुं.) सौ हजार की संख्या; (स्त्री.) देखें लाक्षा।
 लाखना—(हिं. क्रि. स.) लाह लगाकर वरतन का छेद बंद करना।
 लाखपती—(हिं. पुं.) देखें 'लखपती'।
 लाखा—(हिं. पुं.) लाख का बना हुआ रंग, गेहूँ के पौधों में लगनेवाला एक रोग;—गृह—(पुं.) देखें 'लाक्षागृह'।
 लाखी—(हिं. वि.) लाह के रंग का, मट-मैला लाल; (पुं.) लाख के रंग का घोड़ा।
 लाग—(हिं. स्त्री.) सम्पर्क, लगाव, युक्ति, उपाय, प्रेम, उपराचढ़ी, जादू, टोना, विशेष कौशल का स्वांग जिसकी सत्यता जल्दी समझ में न आवे, (ब्राह्मण, भाट, नाई आदि को) शुभ अवसर पर दिया जानेवाला नियत धन, वह चेप जिससे चेचक आदि का टीका लगाया जाता है, भूमिकर, एक प्रकार का नाच, धातु को फूँककर बनाया हुआ भस्म, वैर; (अव्य.) पर्यन्त, तक;—डाँट—(स्त्री.) प्रतिस्पर्धा, शत्रुता, नाचने की एक मुद्रा।
 लागत—(हिं. स्त्री.) वह व्यय जो किसी वस्तु को तैयार करने में लगे।
 लागना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'लगना'।
 लागि—(हिं. अव्य.) निमित्त, लिये, हेतु, से, पर्यन्त, तक।

लागुडिक—(सं. वि., पुं.) जिसके हाथ में लाठी हो, पहरा देनेवाला।
 लागू—(हिं. वि.) लगने योग्य, चरितार्थ, प्रचलित।
 लागे—(हिं. अव्य.) वास्ते, लिये।
 लाघव—(सं. पुं.) लघु होने का भाव, कमी, लघुता, अल्पता, हाथ की चातुरी, आरोग्य; (अव्य.) सहज में, जल्दी से।
 लाघविक—(सं. वि.) संक्षिप्त, थोड़ा।
 लाघवी—(हिं. स्त्री.) शीघ्रता, जल्दी।
 लाचार—(फा. वि.) विवश; (अव्य.) विवश होकर।
 लाचारी—(फा. वि.) लाचार या विवश अवस्था।
 लाची—(हिं. स्त्री.) इलायची;—दाना—(पुं.) चीनी की बनी हुई छोटे-छोटे दानों के आकार की मिठाई।
 लाछन—(हिं. पुं.) देखें 'लांछन'।
 लाछी—(हिं. स्त्री.) लक्ष्मी।
 लाज—(हिं. स्त्री.) लज्जा, शर्म, हया।
 लाजक—(सं. पुं.) धान का लावा।
 लाजना—(हिं. क्रि. अ.) लज्जित होना, शरमाना।
 लाजपेया—(सं. स्त्री.) लावा का माँड़; लाजभवत—(सं. पुं.) लावा का मात।
 लाजमंड—(सं. पुं.) लावा पकाकर इससे निकाला हुआ माँड़।
 लाजवंत—(हिं. वि.) जिसको लज्जा हो।
 लाजवं(व)ती—(हिं. स्त्री.) लजालू नाम का पौधा।
 लाजवर्णी—(सं. स्त्री.) वह फुंसी जो मकड़ी के मूतने से निकल आती है।
 लाजवाब—(फा. वि.) निरुत्तर, बेजोड़।
 लाजशक्तु—(सं. पुं.) लावे का सतू।
 लाजा—(सं. पुं.) भूना हुआ धान, लावा, चावल, भूमि।
 लाट—(हिं. स्त्री.) मोटा तथा ऊँचा खंभा; (पुं.) वर्तमान गुजरात प्रदेश का एक प्राचीन प्रान्त, इस स्थान के अधिवासी, अंग्रेजी 'लाड' शब्द का अपभ्रंश।
 लाटपत्र, लाटपर्ण—(सं. पुं.) दारचीनी।
 लाटानुप्रास—(सं. पुं.) वह शब्दालंकार जिसमें शब्दों की पुनरुक्ति तो होती है परन्तु अन्वय के उलट-फेर से भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हैं।
 लाटिका—(सं. स्त्री.) रचना-शैली की वह रीति जिसमें मृदु पदविन्यास होता है और अधिक संयुक्त पद तथा बड़े-बड़े समास नहीं होते।

लाटी—(हिं. स्त्री.) ओठों तथा मुख का सूख जाना।
 लाठ—(हिं. पुं., स्त्री.) देखें 'लाट'।
 लाठी—(हिं. स्त्री.) लकड़ी, डंडा; (मुहा.)—चलाना—लाठी से मारपीट करना।
 लाड़—(हिं. पुं.) बच्चों का प्यार या दुलार।
 लाड़लड़ा—(हिं. पुं.) वृक्षों पर रहनेवाला एक प्रकार का सर्प।
 लाड़लड़ैता—(हिं. वि.) अधिक प्यारा (पुत्र)।
 लाड़ला—(हिं. वि.) जिसका लाड़ किया जाय, दुलारा।
 लाड़ली—(हिं. वि. स्त्री.) दुलारी।
 लाड़ू—(हिं. पुं.) लड्डू, मोदक।
 लाढ़िया—(हिं. वि.) वह दलाल जो किसी दुकानदारों से मिला रहता है और ग्राहकों को धोखा देकर उस दुकानदार का माल बिकवाता है;—पन—(पुं.) घूर्तता, चालाकी।
 लात—(हिं. स्त्री.) पैर, पाँव, पैर का आघात; (मुहा.)—मारना—तुच्छ जानकर छोड़ देना।
 लाथ—(हिं. पुं.) बहाना।
 लाद—(हिं. स्त्री.) लादने की क्रिया, ढेंकली के दूसरे छोर पर लगा हुआ बोझ, पेट, उदर, आँत, अँतड़ी।
 लादना—(हिं. क्रि. अ.) किसी पदार्थ पर बहुत-सी वस्तुओं को रखना, गाड़ी या पशु की पीठ पर भार रखना, पीठ पर उठा लेना, किसी पर किसी काम का भार सौंपना।
 लादिया—(हिं. पुं.) बोझ लादनेवाला।
 लादी—(हिं. स्त्री.) कपड़ों की गठरी जो घोवी गधे की पीठ पर लादकर साफ करने के लिए ले जाते हैं।
 लाधना—(हिं. क्रि. स.) प्राप्त करना, पाना।
 लानंग—(हिं. पुं.) एक प्रकार का अंगूर।
 लानत—(अ. स्त्री.) भर्त्सना, बिककार।
 लानती—(अ. वि., पुं.) (वह) जो सर्वदा फटकार सुनता हो।
 लाना—(हिं. क्रि. स.) किसी वस्तु को उठाकर अपने साथ लेकर आना, प्रत्यक्ष करना, सामने रखना, उत्पन्न करना, जलाना, आग लगाना।
 लाने—(हिं. अव्य.) वास्ते, लिये।
 लाप—(सं. पुं.) कथन, वार्ता।
 लापता—(हिं. वि.) जिसका पता न हो, खोया हुआ, गुप्त।
 लापसी—(हिं. स्त्री.) देखें 'लापसी'।
 लापी—(सं. वि.) बोलनेवाला।

लाप्य—(सं. वि.) कहने योग्य ।
 लावर—(हिं. वि.) देखें 'लवार' ।
 लाभ—(सं. पुं.) प्राप्ति, मिलना, उप-
 कार, भलाई; -कर, -कारक—(वि.)
 लाभदायक, जिससे लाभ हो; -कारी—
 (वि.) लाभ करनेवाला; -दायक—
 (वि.) गुणकारी; -मद—(पुं.) वह
 मद जिससे मनुष्य अपने को श्रेष्ठ और
 दूसरों को हीन समझता है; -लिप्ता—
 (स्त्री.) प्राप्त करने की इच्छा; -लिप्सु—
 (वि.) पाने की इच्छा करनेवाला ।
 लाभ्य—(सं. पुं.) लाभ ।
 लाभ—(हिं. पुं.) सेना, बहुत-से मनुष्यों
 का समूह ।
 लाभज—(हिं. पुं.) खस की तरह की एक घास ।
 लाभन—(हिं. पुं.) लटकन, लहंगा ।
 लाभय—(हिं. पुं.) एक प्रकार की घास ।
 लाभ्या—(हिं. पुं.) तिब्बत के बौद्धों का
 धर्माचार्य, अँट की तरह का एक पशु;
 (वि.) लंबा ।
 लाभ्या—(हिं. पुं.) एक प्रकार का लंबा फल
 जिसकी तरकारी बनती है ।
 लाभ्ये—(हिं. अव्य.) दूर ।
 लाय—(हिं. स्त्री.) आग की ज्वाला या
 लपट ।
 लायक—(अ. वि.) योग्य, समर्थ, उपयुक्त ।
 लायकी—(अ. स्त्री.) योग्यता ।
 लायची—(हिं. स्त्री.) देखें 'इलायची' ।
 लार—(हिं. स्त्री.) वह पतला लसदार
 थूक जो मुँह से स्वतः-रूप से निकलता
 है, पंक्ति, लासा; (अव्य.) पीछे,
 साथ; (मुहा.) -लगाना-फँसाना ।
 लारू—(हिं. पुं.) लड्डू ।
 लाल—(हिं. पुं.) छोटा प्रिय बालक, प्यारा
 बच्चा, पुत्र, बेटा, श्रीकृष्ण का एक नाम,
 दुलार, प्यार, लार, लाल रंग की एक
 प्रसिद्ध छोटी चिड़िया, मानिक नाम का
 रत्न, लहू जैसा रंग; (वि.) लाल रंग
 का, अति क्रुद्ध, जो प्रतिस्पर्धावाले
 खेल में सब से पहले जीत गया हो;
 (मुहा.) -पड़ना या होना-अति क्रुद्ध
 होगा; -पीला होना-क्रोध करना ।
 लालअंदारी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का
 पटुआ ।
 लालअग्नि—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।
 लालआलू—(हिं. पुं.) रस्तालू, अरुई ।
 लालक—(हिं. वि.) प्यार करनेवाला ।
 लालचंदन—(हिं. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष
 जिसके हीर की लकड़ी कुछ कालापन
 लिये भाल होती है, देवीचन्दन ।

लालच—(हिं. पुं.) किसी वस्तु को प्राप्त
 करने की तीव्र लालसा, लोलुपता, लोभ ।
 लालची—(हिं. वि.) लोभी, जिसको बहुत
 लालच हो ।
 लालटेन—(हिं. स्त्री.) प्रकाश करने का
 एक यन्त्र जिसमें तेल भरने के लिए
 पेंदी में पोला स्थान होता और टेम को
 ढकने के लिए शीशा लगा होता है ।
 लालड़ी—(हिं. स्त्री.) लाल रंग का एक
 प्रकार का नगीना ।
 लालन—(सं. पुं.) प्रेमपूर्वक बालकों का
 आदर करना, लाड़, प्यार; (हिं. पुं.) प्रिय
 बालक, प्यारा बच्चा, चिरौंजी;
 -पालन—(पुं.) भरण-पोषण ।
 लालना—(हिं. क्रि. स.) लाड़ करना ।
 लालनीय—(सं. वि.) दुलार या प्यार
 करने योग्य ।
 लालपानी—(हिं. पुं.) मद्य ।
 लाल-बुझकड़—(हिं. पुं.) वह जो कोई
 बात जानता न हो, केवल अटकल से
 आशय लगाता हो ।
 लालबेग—(हिं. पुं.) लाल रंग का एक
 प्रकार का परदार कीड़ा ।
 लालमन—(हिं. पुं.) श्रीकृष्ण, एक प्रकार
 का लाल तोता जिसका शरीर लाल,
 डैने हरे, चोंच गुलाबी और दुम काली
 होती है ।
 लालमिर्च—(हिं. स्त्री.) मिरचा, मरचा ।
 लालमी—(हिं. पुं.) खरबूजा ।
 लालमुँहा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का लाल
 निनावा जो मुख के भीतर हो जाता है ।
 लालमूली—(हिं. स्त्री.) सलजम ।
 लालयितव्य—(सं. वि.) लालन-पालन
 करने योग्य ।
 लालरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'लालड़ी' ।
 लालस—(सं. पुं.) लालसा, चाह ।
 लालसफरी—(हिं. पुं.) अमरुद ।
 लालसमुद्र—(हिं. पुं.) लाल सागर ।
 लालसर—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।
 लालसा—(सं. स्त्री.) किसी पदार्थ को
 प्राप्त करने की अधिक अभिलाषा,
 उत्सुकता, गर्भावस्था में उत्पन्न होने-
 वाली अभिलाषा, दोहद ।
 लाल सागर—(हिं. पुं.) भारतीय महासागर
 का वह अंश जो अरब और अफ्रीका
 के मध्य में पड़ता है और स्वेज नहर
 तक फैला है ।
 लालसिखी—(हिं. पुं.) मुरगा ।
 लालसिरा—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की
 वस्तु जिसका सिर लाल होता है ।

लालसी—(हिं. वि.) अभिलाषी, उत्सुक ।
 लाला—(सं. स्त्री.) मुख से निकलनेवाली
 लार, थूक; (हिं. पुं.) आदरसूचक
 संबोधन का शब्द, महाशय, (इस शब्द
 का व्यवहार पंजाब में अधिकतर होता
 है), कायस्थ जाति का सूचक शब्द,
 छोटे प्रिय व्यक्ति के लिये संबोधन ।
 लालाटिक—(सं. वि.) ललाट-संबंधी ।
 लालायित—(सं. वि.) जिसके मुख में
 लालच के कारण पानी भर आया हो,
 ललचाया हुआ ।
 लालाखव—(हिं. पुं.) लूता, मकड़ी ।
 लालित—(सं. वि.) पाला-पोसा हुआ,
 प्यारा, दुलारा ।
 लालित्य—(सं. पुं.) ललित होने का भाव,
 मनोहरता, सुन्दरता ।
 लालिमा—(सं. स्त्री.) अरुणता, ललाई ।
 लाली—(हिं. स्त्री.) लाल होने का भाव,
 ललाई, प्रतिष्ठा, लली ।
 लालुका—(सं. स्त्री.) गले में पहनने का
 एक प्रकार का हार ।
 लाले—(हिं. पुं.) लालसा, अभिलाषा;
 (मुहा.) (किसी वस्तु के)-पड़ना-
 किसी वस्तु के लिये लालसा होना ।
 लाल्य—(सं. वि.) लालन करने योग्य ।
 लाल्या—(हिं. पुं.) मरसे का साग ।
 लाव—(सं. पुं.) लवा नामक पक्षी; (हिं.
 स्त्री.) मोटी डोरी, रस्सा, उतनी भूमि
 जितनी एक दिन में सींची जा सके,
 वह ऋण जो ऋणी की कोई वस्तु बंधक
 रखकर दिया जाय ।
 लावक—(हिं. पुं.) ढोल के आकार का
 एक प्राचीन बाजा ।
 लावण—(सं. वि.) लवण-संबंधी, नमकीन ।
 लावणिक—(सं. पुं.) नमक बेचनेवाला ।
 लावण्य—(सं. पुं.) लवणत्व, लवण का
 स्वाद, अत्यन्त सुन्दरता, शील की
 उत्तमता ।
 लावण्या—(सं. स्त्री.) ब्राह्मी वृत्ति ।
 लावनता—(हिं. स्त्री.) देखें 'लावण्य' ।
 लावना—(हिं. क्रि. स.) लगाना, स्पर्श करना,
 जलाना, आग जलाना, देखें 'लाना' ।
 लावनि—(सं. स्त्री.) सौन्दर्य, लावण्य ।
 लावनी—(हिं. स्त्री.) गाने का एक प्रकार
 का छन्द, (इसको ख्याल भी कहते हैं) ।
 लावल्द—(फा. वि.) निःसंतान ।
 लावल्दी—(फा. स्त्री.) निःसंतान स्थिति ।
 लावा—(सं. पुं.) लवा नामक पक्षी; (हिं.
 पुं.) भूना हुआ धान, (ज्वार, बाजरा,
 रामदाना आदि), खील, लाई ।

लावापरछन—(हि. पुं.) विवाह के समय की एक रीति ।
 लावारिस—(अ. वि.) विना उत्तराधिकारी का, परित्यक्त ।
 लावारिसी—(सं. स्त्री.) लावारिस स्थिति ।
 लाविका—(अ. स्त्री.) लावा नामक पक्षी ।
 लाश—(फ्रा. स्त्री.) मृत शरीर, शव ।
 लाष—(हि. स्त्री.) देखें 'लाख' ।
 लाषना—(हि. क्रि. स.) देखें 'लाखना' ।
 लास—(सं. पुं.) एक प्रकार का नाच, मटकने का भाव, जूस ।
 लासक—(सं. पुं.) नाचनेवाला, मोर ।
 लासकी—(सं. स्त्री.) नाचनेवाली स्त्री ।
 लासन—(हि. पुं.) जहाज वाँधने का मोटा रस्सा; (सं. पुं.) नाचना ।
 लासा—(हि. पुं.) कोई लसदार या चिपचिपी वस्तु, वह चिपचिपा पदार्थ जिससे वहेलिया चिड़ियों को फँसाते हैं, गोंद ।
 लासि—(हि. पुं.) देखें 'लास्य' ।
 लासिका—(सं. स्त्री.) नर्तकी, नाचनेवाली स्त्री ।
 लासी—(हि. स्त्री.) गेहूँ की उपज को हानि पहुँचानेवाला एक काला कीड़ा ।
 लास्य—(सं. पुं.) भाव और ताल-सहित नाच जिसमें शृंगार आदि कोमल रसों का उद्दीपन होता है; स्त्रियों का नाच ।
 लास्यक—(सं. पुं.) नृत्य, नाच ।
 लास्या—(सं. स्त्री.) नाचनेवाली स्त्री ।
 लाह—(हि. स्त्री.) लाख, चपड़ा, चमक, आमा; (पुं.) लाम ।
 लाहन—(हि. पुं.) वह महुआ जो मद्य चूआने के बाद बच जाता है और पशुओं को खिलाया जाता है, खमीर जिससे मद्य बनता है ।
 लाहल—(हि. पुं.), लाहौल—(अ. पुं.) मृत-प्रेत की झाड़-फूंक में कहा जानेवाला शब्द ।
 लाही—(हि. स्त्री.) लाल रंग का वह छोटा कीड़ा जो वृक्षों पर लाह उत्पन्न करता है, इसी प्रकार का कीड़ा जो उपज को बहुत हानि पहुँचाता है, लावा, सरसों; (वि.) लोहे के रंग का, मटमैले लाल रंग का ।
 लाहु—(हि. पुं.) लाम ।
 लिंग—(सं. पुं.) चिह्न, लक्षण, साधक हेतु, सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति, व्याकरण में शब्दों का भेद जिससे उनके पुलिग या स्त्रीलिग होने का पता लगता है, भीमांसा के छः लक्षण, सामर्थ्य, पुरुष की गुणैन्द्रिय, शिशन; -क—(पुं.) कथ का पेड़; -देह—(पुं.)

वह सूक्ष्म शरीर जो इस स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी अपने किये हुए कर्मों का फल भोगने के लिये जीवात्मा के साथ लगा रहता है; -धारण—(पुं.) वंश या सम्प्रदाय के चिह्न धारण करना; -धारी—(वि.) लिंग-धारण करनेवाला, चिह्नधारी; -पीठ—(पुं.) मन्दिर का अरधा जिस पर देवलिंग स्थापित रहता है; -मूर्ति—(पुं.) शिव; -रोग—(पुं.) शिशन का एक रोग; -वत्—(वि.) चिह्नयुक्त; -वर्ध—(पुं.) कथ का पेड़; -वर्धन—(पुं.) शिशन की वृद्धि; -वर्धनी—(स्त्री.) अपामार्ग, चिचड़ा; -वर्धी—(वि.) शिशन की वृद्धि करनेवाला; -विपर्यय—(पुं.) व्याकरण में लिंग का परिवर्तन; -वैदी—(स्त्री.) वह अरधा जिस पर कोई देवमूर्ति स्थापित की जाती है; -शरीर—(पुं.) सूक्ष्म शरीर; -स्थ—(पुं.) ब्रह्मचारी ।
 लिगाग्र—(सं. पुं.) शिशन का अग्र-भाग ।
 लिगानुशासन—(सं. पुं.) व्याकरण में शब्दों का लिंग-निरूपण करने के नियम ।
 लिगार्चन—(सं. पुं.) शिवलिंग का पूजन ।
 लिगालिका—(सं. स्त्री.) छोटी चुहिया, मुसटी ।
 लिगी—(सं. पुं.) हाथी; (वि.) चिह्नवाला ।
 लि—(सं. पुं.) शान्ति, नाश, शेष, अन्त, हाथ में पहिने का एक आभूषण ।
 लिए—(हि. विभ.) हिंदी की एक विभक्ति जिसका प्रयोग सम्प्रदान कारक में किया जाता है। (निमित्त, प्रयोजन आदि के सूचनार्थ यह शब्द के साथ लगाया जाता है। उत्तम तथा मध्यम पुरुष के सर्वनामों को छोड़कर बाकी सर्वनामों तथा संज्ञाओं के साथ इसके पहले 'के' लगता है, यथा—मैं उसके या गोपाल के लिए पुस्तक लाया हूँ ।)
 लिकिन—(हि. पुं.) मटमैले रंग की एक बड़ी चिड़िया ।
 लिखुद्ध—(सं. पुं.) वड़हर का वृक्ष ।
 लिक्का—(सं. स्त्री.) जूँ का अंडा, लीख ।
 लिक्खाड़—(हि. पुं.) बहुत लिखनेवाला, बहुत बड़ा लेखक (व्यंग्य में) ।
 लिक्का—(सं. स्त्री.) जूँ का अंडा, लीख, एक सूक्ष्म परिमाण ।
 लिखत—(हि. स्त्री.) लिखी हुई बात ।
 लिखन—(सं. पुं.) लिपि, लिखावट ।
 लिखना—(हि. क्रि. स.) किसी नुकीली वस्तु से रेखा, अक्षर आदि के रूप में चिह्नित करना, अंकित करना, कोई बात

लिपिवद्ध करना, लेख आदि की रचना करना, पुस्तक या ग्रंथ रचना ।
 लिखचाई—(हि. स्त्री.) लिखाई ।
 लिखचाना—(हि. क्रि. स.) लिखने का काम दूसरे से कराना ।
 लिखाई—(हि. स्त्री.) लिखने का कार्य, लेख, लिपि, लिखने का ढंग, लिखावट, लिखने का शिल्प; -पढ़ाई—(स्त्री.) विद्योपार्जन ।
 लिखाना—(हि. क्रि. स.) अंकित कराना, दूसरे से लिखने का काम कराना; (मुहा.) -पढ़ाना—शिक्षा देना ।
 लिखापढ़ी—(हि. स्त्री.) चिट्ठियों का आना-जाना, पत्र-व्यवहार, किसी विषय को कागज पर लिखकर पक्का करना ।
 लिखावट—(हि. स्त्री.) लिखे हुए अक्षर आदि, लिखने का ढंग, या प्रणाली, लेख ।
 लिखित—(सं. वि.) अंकित, लिखा हुआ; (पुं.) लिपि; लेख, प्रमाणपत्र ।
 लिखितक—(हि. पुं.) एक प्रकार के प्राचीन चौखूँटे अक्षर जो मध्य एशिया के शिलालेखों में पाये गये हैं ।
 लिखेरा—(हि. पुं.) लिखनेवाला, लेखक ।
 लिख्या—(सं. स्त्री.) लीख, एक परिमाण ।
 लिचेन—(हि. पुं.) एक प्रकार की घास ।
 लिच्छवि—(हि. पुं.) भारत का एक प्राचीन राजवंश ।
 लिटाना—(हि. क्रि. स.) लेटने की क्रिया कराना ।
 लिट्ट—(हि. पुं.), लिट्टी—(हि. स्त्री.) रोटी जो विना तवे के भाग पर ही सेकी जाय, वाटी ।
 लिठोर—(हि. पुं.) एक प्रकार का नमकीन पकवान ।
 लिडार—(हि. वि.) डरपोक, कायर ।
 लिपटना—(हि. क्रि. अ.) चिपटना, सट जाना, तन्मय होकर किसी कार्य में प्रवृत्त होना, गले लगना, आलिंगन करना ।
 लिपटाना—(हि. क्रि. स.) एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सटाना, चिपटाना, गले लगाना, आलिंगन करना ।
 लिपड़ा—(हि. पुं.) कपड़ा; (वि.) लेई की तरह गोला और चिपचिपा ।
 लिपना—(हि. क्रि. अ.) किसी रंग या गीली वस्तु से पोता जाना, रंग आदि का मही तरह फैल जाना ।
 लिपवाना—(हि. क्रि. स.) लीपने-पोतने का काम दूसरे से कराना ।
 लिपाई—(हि. स्त्री.) लीपने-पोतने की क्रिया या भाव, लीपने की मजदूरी ।

लाप्य—(सं. वि.) कहने योग्य ।
 लावर—(हिं. वि.) देखें 'लवार' ।
 लाभ—(सं. पुं.) प्राप्ति, मिलना, उप-
 कार, मलाई; -कर, -कारक—(वि.)
 लाभदायक, जिससे लाभ हो; -कारी—
 (वि.) लाभ करनेवाला; -दायक—
 (वि.) गुणकारी; -मद—(पुं.) वह
 मद जिससे मनुष्य अपने को श्रेष्ठ और
 दूसरों को हीन समझता है; -लिप्सा—
 (स्त्री.) प्राप्त करने की इच्छा; -लिप्सु—
 (वि.) पाने की इच्छा करनेवाला ।
 लाभ्य—(सं. पुं.) लाभ ।
 लाम—(हिं. पुं.) सेना, बहुत-से मनुष्यों
 का समूह ।
 लामज—(हिं. पुं.) खस की तरह की एक घास ।
 लामन—(हिं. पुं.) लटकन, लहंगा ।
 लामय—(हिं. पुं.) एक प्रकार की घास ।
 लामा—(हिं. पुं.) तिब्बत के बौद्धों का
 धर्माचार्य, अँट की तरह का एक पशु;
 (वि.) लंबा ।
 लामी—(हिं. पुं.) एक प्रकार का लंबा फल
 जिसकी तरकारी बनती है ।
 लामें—(हिं. अव्य.) दूर ।
 लाय—(हिं. स्त्री.) आग की ज्वाला या
 लपट ।
 लायक—(अ. वि.) योग्य, समर्थ, उपयुक्त ।
 लायकी—(अ. स्त्री.) योग्यता ।
 लायची—(हिं. स्त्री.) देखें 'इलायची' ।
 लार—(हिं. स्त्री.) वह पतला लसदार
 थूक जो मुँह से स्वतः-रूप से निकलता
 है, पवित्र, लासा; (अव्य.) पीछे,
 साथ; (मुहा.)-लगाना-फँसाना ।
 लारू—(हिं. पुं.) लड़्डू ।
 लाल—(हिं. पुं.) छोटा प्रिय बालक, प्यारा
 बच्चा, पुत्र, बेटा, श्रीकृष्ण का एक नाम,
 दुलार, प्यार, लार, लाल रंग की एक
 प्रसिद्ध छोटी चिड़िया, मानिक नाम का
 रत्न, लहू जैसा रंग; (वि.) लाल रंग
 का, अति क्रुद्ध, जो प्रतिस्पर्धावाले
 खेल में सत्र से पहले जीत गया हो;
 (मुहा.)-पड़ना या होना-अति क्रुद्ध
 होना; -पीला होना-क्रोध करना ।
 लालअंदारी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का
 पटुआ ।
 लालअग्नि—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।
 लालआलू—(हिं. पुं.) रतालू, अरुई ।
 लालक—(हिं. वि.) प्यार करनेवाला ।
 लालचंदन—(हिं. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष
 जिसके हीर की लकड़ी कुछ कालापन
 निये भान होती है, देवीचन्दन ।

लालच—(हिं. पुं.) किसी वस्तु को प्राप्त
 करने की तीव्र लालसा, लोलुपता, लोभ ।
 लालची—(हिं. वि.) लोभी, जिसको बहुत
 लालच हो ।
 लालटेन—(हिं. स्त्री.) प्रकाश करने का
 एक यन्त्र जिसमें तेल भरने के लिए
 पेंदी में पोला स्थान होता और टेम को
 ढकने के लिए शीशा लगा होता है ।
 लालड़ी—(हिं. स्त्री.) लाल रंग का एक
 प्रकार का नगीना ।
 लालन—(सं. पुं.) प्रेमपूर्वक बालकों का
 आदर करना, लाड़, प्यार; (हिं. पुं.) प्रिय
 बालक, प्यारा बच्चा, चिरौंजी;
 -पालन—(पुं.) भरण-पोषण ।
 लालना—(हिं. क्रि. स.) लाड़ करना ।
 लालनीय—(सं. वि.) दुलार या प्यार
 करने योग्य ।
 लालपानी—(हिं. पुं.) मद्य ।
 लाल-बुझकड़—(हिं. पुं.) वह जो कोई
 बात जानता न हो, केवल अटकल से
 आशय लगाता हो ।
 लालबेग—(हिं. पुं.) लाल रंग का एक
 प्रकार का परदार कीड़ा ।
 लालमन—(हिं. पुं.) श्रीकृष्ण, एक प्रकार
 का लाल तोता जिसका शरीर लाल,
 डैने हरे, चौच गुलाबी और दुम काली
 होती है ।
 लालमिर्च—(हिं. स्त्री.) मिरचा, मरचा ।
 लालमी—(हिं. पुं.) खरबूजा ।
 लालमुँहा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का लाल
 निनावाँ जो मुख के भीतर हो जाता है ।
 लालमूली—(हिं. स्त्री.) सलजम ।
 लालयितव्य—(सं. वि.) लालन-पालन
 करने योग्य ।
 लालरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'लालड़ी' ।
 लालस—(सं. पुं.) लालसा, चाह ।
 लालसफरी—(हिं. पुं.) अमरूद ।
 लालसमुद्र—(हिं. पुं.) लाल सागर ।
 लालसर—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पक्षी ।
 लालसा—(सं. स्त्री.) किसी पदार्थ को
 प्राप्त करने की अधिक अभिलाषा,
 उत्सुकता, गर्भावस्था में उत्पन्न होने-
 वाली अभिलाषा, दोहद ।
 लाल सागर—(हिं. पुं.) भारतीय महासागर
 का वह अंश जो अरब और अफ्रीका
 के मध्य में पड़ता है और स्वेज नहर
 तक फैला है ।
 लालसिखी—(हिं. पुं.) मुरगा ।
 लालसिरा—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की
 वस्तु जिसका सिर लाल होता है ।

लालसी—(हिं. वि.) अभिलाषी, उत्सुक ।
 लाला—(सं. स्त्री.) मुख से निकलनेवाली
 लार, थूक; (हिं. पुं.) आदरसूचक
 संबोधन का शब्द, महाशय, (इस शब्द
 का व्यवहार पंजाब में अधिकतर होता
 है), कायस्थ जाति का सूचक शब्द,
 छोटे प्रिय व्यक्ति के लिये संबोधन ।
 लालाटिक—(सं. वि.) ललाट-संबंधी ।
 लालायित—(सं. वि.) जिसके मुख में
 लालच के कारण पानी भर आया हो,
 ललचाया हुआ ।
 लालास्रव—(हिं. पुं.) लूता, मकड़ी ।
 लालित—(सं. वि.) पाला-पोसा हुआ,
 प्यारा, दुलारा ।
 लालित्य—(सं. पुं.) ललित होने का भाव,
 मनोहरता, सुन्दरता ।
 लालिमा—(सं. स्त्री.) अरुणता, ललाई ।
 लाली—(हिं. स्त्री.) लाल होने का भाव,
 ललाई, प्रतिष्ठा, लली ।
 लालुका—(सं. स्त्री.) गले में पहनने का
 एक प्रकार का हार ।
 लाले—(हिं. पुं.) लालसा, अभिलाषा;
 (मुहा.) (किसी वस्तु के)-पड़ना-
 किसी वस्तु के लिये लालसा होना ।
 लाल्य—(सं. वि.) लालन करने योग्य ।
 लाल्हा—(हिं. पुं.) मरसे का साग ।
 लाव—(सं. पुं.) लवा नामक पक्षी; (हिं.
 स्त्री.) मोटी डोरी, रस्सा, उतनी भूमि
 जितनी एक दिन में सींची जा सके,
 वह ऋण जो ऋणी को कोई वस्तु बंधक
 रखकर दिया जाय ।
 लावक—(हिं. पुं.) ढोल के आकार का
 एक प्राचीन वाजा ।
 लावण—(सं. वि.) लवण-संबंधी, नमकीन ।
 लावणिक—(सं. पुं.) नमक बेचनेवाला ।
 लावण्य—(सं. पुं.) लवणत्व, लवण का
 स्वाद, अत्यन्त सुन्दरता, शील की
 उत्तमता ।
 लावण्या—(सं. स्त्री.) ब्राह्मी वृष्टी ।
 लावनती—(हिं. स्त्री.) देखें 'लावण्य' ।
 लावना—(हिं. क्रि. स.) लगाना, स्पर्श करना,
 जलाना, आग जलाना, देखें 'लाना' ।
 लावनि—(सं. स्त्री.) सौन्दर्य, लावण्य ।
 लावनी—(हिं. स्त्री.) गाने का एक प्रकार
 का छन्द, (इसको ख्याल भी कहते हैं) ।
 लावल्द—(फ्रा. वि.) निःसंतान ।
 लावल्दी—(फ्रा. स्त्री.) निःसंतान स्थिति ।
 लावा—(सं. पुं.) लवा नामक पक्षी; (हिं.
 पुं.) भूना हुआ घान, (ज्वार, बाजरा,
 रामदाना आदि), खील, लाई ।

लावापरछन—(हिं. पुं.) विवाह के समय की एक रीति ।

लावारिस—(अ. वि.) विना उत्तराधिकारी का, परित्यक्त ।

लावारिसी—(सं. स्त्री.) लावारिस स्थिति ।

लाविका—(अ. स्त्री.) लवा नामक पक्षी ।

लाश—(फा. स्त्री.) मृत शरीर, शव ।

लाष—(हिं. स्त्री.) देखें 'लाख' ।

लाषना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'लाखना' ।

लास—(सं. पुं.) एक प्रकार का नाच, मटकने का भाव, जूस ।

लासक—(सं. पुं.) नाचनेवाला, मोर ।

लासकी—(सं. स्त्री.) नाचनेवाली स्त्री ।

लासन—(हिं. पुं.) जहाज वांधने का मोटा रस्सा; (सं. पुं.) नाचना ।

लासा—(हिं. पुं.) कोई लसदार या चिपचिपी वस्तु, वह चिपचिपा पदार्थ जिससे वहेलिया चिड़ियों को फँसाते हैं, गोंद ।

लासि—(हिं. पुं.) देखें 'लास्य' ।

लासिका—(सं. स्त्री.) नर्तकी, नाचनेवाली स्त्री ।

लासी—(हिं. स्त्री.) गेहूँ की उपज को हानि पहुँचानेवाला एक काला कीड़ा ।

लास्य—(सं. पुं.) भाव और ताल-सहित नाच जिसमें श्रृंगार आदि कोमल रसों का उद्दीपन होता है, स्त्रियों का नाच ।

लास्यक—(सं. पुं.) नृत्य, नाच ।

लास्या—(सं. स्त्री.) नाचनेवाली स्त्री ।

लाह—(हिं. स्त्री.) लाख, चपड़ा, चमक, आभा; (पुं.) लाभ ।

लाहन—(हिं. पुं.) वह महुआ जो मद्य चूआने के बाद बच जाता है और पशुओं को खिलाया जाता है, खमीर जिससे मद्य बनता है ।

लाहल—(हिं. पुं.), लाहौल—(अ. पुं.) भूत-प्रेत की झाड़-फूंक में कहा जानेवाला शब्द ।

लाही—(हिं. स्त्री.) लाल रंग का वह छोटा कीड़ा जो वृक्षों पर लाह उत्पन्न करता है, इसी प्रकार का कीड़ा जो उपज को बहुत हानि पहुँचाता है, लावा, सरसों; (वि.) लोहे के रंग का, मटमैले लाल रंग का ।

लाहू—(हिं. पुं.) लाभ ।

लाग—(सं. पुं.) चिह्न, लक्षण, साधक हेतु, सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति, व्याकरण में शब्दों का भेद जिससे उनके पुलिग या स्त्रीलिग होने का पता लगता है, मीमांसा के छः लक्षण, सामर्थ्य, पुरुष की गुणोद्भिय, शिशन; -क—(पुं.) बँध का पड़; -देह—(पुं.)

वह सूक्ष्म शरीर जो इस स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी अपने किये हुए कर्मों का फल भोगने के लिये जीवात्मा के साथ लगा रहता है; -धारण—(पुं.) वंश या सम्प्रदाय के चिह्न धारण करना;

-धारी—(वि.) लिग-धारण करनेवाला, चिह्नधारी; -पीठ—(पुं.) मन्दिर का अरधा जिस पर देवलिग स्थापित रहता है; -मूर्ति—(पुं.) शिव;

-रोग—(पुं.) शिशन का एक रोग; -वत्—(वि.) चिह्नयुक्त; -वर्ध—(पुं.) कैथ का पेड़; -वर्धन—(पुं.) शिशन की वृद्धि;

-वर्धनी—(स्त्री.) अपामार्ग, चिचड़ा; -वर्धी—(वि.) शिशन की वृद्धि करनेवाला; -विपर्यय—(पुं.) व्याकरण में लिग का परिवर्तन; -वेदी—(स्त्री.) वह अरधा जिस पर कोई देवमूर्ति स्थापित की जाती है; -शरीर—(पुं.) सूक्ष्म शरीर; -स्थ—(पुं.) ब्रह्मचारी ।

लिंगाग्र—(सं. पुं.) शिशन का अग्र-भाग ।

लिंगानुशासन—(सं. पुं.) व्याकरण में शब्दों का लिग-निरूपण करने के नियम ।

लिंगार्चन—(सं. पुं.) शिवलिग का पूजन ।

लिंगालिका—(सं. स्त्री.) छोटी चुहिया, मुसटी ।

लिंगी—(सं. पुं.) हाथी; (वि.) चिह्नवाला ।

लि—(सं. पुं.) शान्ति, नाश, शेष, अन्त, हाथ में पहिनने का एक आभूषण ।

लिए—(हिं. विभ.) हिंदी की एक विभक्ति जिसका प्रयोग सम्प्रदान कारक में किया जाता है । (निमित्त, प्रयोजन आदि के सूचनार्थ यह शब्द के साथ लगाया जाता है । उत्तम तथा मध्यम पुरुष के सर्वनामों को छोड़कर बाकी सर्वनामों तथा संज्ञाओं के साथ इसके पहले 'के' लगता है, यथा—मैं उसके या गोपाल के लिए पुस्तक लाया हूँ ।)

लिङ्गिन—(हिं. पुं.) मटमैले रंग की एक बड़ी चिड़िया ।

लिकुच—(सं. पुं.) दड़हर का वृक्ष ।

लिबका—(सं. स्त्री.) जूँ का अंडा, लीख ।

लिबखाड़—(हिं. पुं.) बहुत लिखनेवाला, बहुत बड़ा लेखक (व्यंग्य में) ।

लिक्षा—(सं. स्त्री.) जूँ का अंडा, लीख, एक सूक्ष्म परिमाण ।

लिखत—(हिं. स्त्री.) लिखी हुई बात ।

लिखन—(सं. पुं.) लिपि, लिखावट ।

लिखना—(हिं. क्रि. स.) किसी नुकीली वस्तु से रेखा, अक्षर आदि के रूप में चिह्नित करना, अंकित करना, कोई बात

लिपिवद्ध करना, लेख आदि की रचना करना, पुस्तक या ग्रंथ रचना ।

लिखवाई—(हिं. स्त्री.) लिखाई ।

लिखवाना—(हिं. क्रि. स.) लिखने का काम दूसरे से कराना ।

लिखाई—(हिं. स्त्री.) लिखने का कार्य, लेख, लिपि, लिखने का ढंग, लिखावट, लिखने का शुल्क; -पढ़ाई—(स्त्री.)

विद्योपार्जन ।

लिखाना—(हिं. क्रि. स.) अंकित कराना, दूसरे से लिखने का काम कराना; (मूहा.)-पढ़ाना-शिक्षा देना ।

लिखापढ़ी—(हिं. स्त्री.) चिट्ठियों का आना-जाना, पत्र-व्यवहार, किसी विषय को कागज पर लिखकर पक्का करना ।

लिखावट—(हिं. स्त्री.) लिखे हुए अक्षर आदि, लिखने का ढंग, या प्रणाली, लेख ।

लिखित—(सं. वि.) अंकित, लिखा हुआ; (पुं.) लिपि, लेख, प्रमाणपत्र ।

लिखितक—(हिं. पुं.) एक प्रकार के प्राचीन चौखूँटे अक्षर जो मध्य एशिया के शिला-लेखों में पाये गये हैं ।

लिखेरा—(हिं. पुं.) लिखनेवाला, लेखक ।

लिख्या—(सं. स्त्री.) लीख, एक परिमाण ।

लिचेन—(हिं. पुं.) एक प्रकार की घास ।

लिच्छवि—(हिं. पुं.) भारत का एक प्राचीन राजवंश ।

लिटाना—(हिं. क्रि. स.) लेटने की क्रिया कराना ।

लिट्टू—(हिं. पुं.), लिट्टूनी—(हिं. स्त्री.) रोटी जो बिना तवे के आग पर ही सेंकी जाय, वाटी ।

लिठोर—(हिं. पुं.) एक प्रकार का ननकीन पकवान ।

लिडार—(हिं. वि.) डरपोक, कायर ।

लिपटना—(हिं. क्रि. अ.) चिपटना, सट जाना, तन्मय होकर किसी कार्य में प्रवृत्त होना, गले लगना, आलिंगन करना ।

लिपटाना—(हिं. क्रि. स.) एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सटाना, चिपटाना, गले लगाना, आलिंगन करना ।

लिपड़ा—(हिं. पुं.) कपड़ा; (वि.) लेई की तरह गोला और चिपचिपा ।

लिपना—(हिं. क्रि. अ.) किसी रंग या गीली वस्तु से पोता जाना, रंग आदि का नदी तरह फँल जाना ।

लिपवाना—(हिं. क्रि. स.) लिपने-पोतने का काम दूसरे से कराना ।

लिपाई—(हिं. स्त्री.) लिपने-पोतने की क्रिया या भाव, लिपने की मजदूरी ।

लिपाना-(हि. क्रि. अ., स.) रंग अथवा किसी गीली वस्तु की तह चढ़वाना, पुताना, घुली हुई मिट्टी, गोबर आदि का लेप करना ।

लिपि-(सं. स्त्री.) वर्ण या अक्षर के अंकित चिह्न, लिखावट, लिखने की विविध पद्धतियाँ, लिखे हुए अक्षर; -**कर-**(पुं.) लेखक, लिखनेवाला; -**कार-**(पुं.) लेखक; -**ज्ञ-**(वि. पुं.) सुन्दर लिखनेवाला; -**न्यास-**(पुं.) लिखने की क्रिया, लिखावट; -**फलक-**(पुं.) पत्थर, घातु आदि का पट्ट जिस पर अक्षर खोदे जाते हैं; -**बद्ध-**(वि.) लिखित, लिखा हुआ; -**शाला-**(स्त्री.) पाठशाला ।

लिपिक-(सं. पुं.) लेखक, किरानी, मुहरिर् ।
लिप्त-(सं. वि.) भक्षित, खाया हुआ, पोता हुआ, मिला हुआ, अनुसृत, तत्पर, संलग्न, पतला लेप चढ़ाया हुआ; -**हस्त-**(वि.) जिसका हाथ रुधिर से लथपथ हो ।

लिप्तांग-(सं. वि.) जिसका शरीर सुगन्धित द्रव्यों से लेपन किया गया हो ।

लिप्ता-(सं. स्त्री.) काल का एक प्राचीन परिमाण जो प्रायः एक मिनट के बराबर माना जाता है ।

लिप्सा-(सं. स्त्री.) अभिलाषा, इच्छा, लालच ।

लिप्सित-(सं. वि.) अभिलिपित ।

लिप्सु-(सं. वि.) पाने की इच्छा करनेवाला; -**त्ता-**(स्त्री.) पाने की इच्छा ।

लिफाफा-(अ. पुं.) पत्र या चिट्ठी का आवरण या खोल, खाम ।

लिबड़ी-(हि. स्त्री.) कपड़ा-लत्ता ।

लिबि, लिबि-(सं. स्त्री.) देखें 'लिपि' ।

लियाकत-(अ. स्त्री.) योग्यता, गुण ।

लिलाट, लिलार-(हि. पुं.) देखें 'ललाट' ।

लिलद-(हि. स्त्री.) लौ, लगन ।

लिवाना-(हि. क्रि. स.) लेने या लाने का काम दूसरे से कराना, थमाना ।

लिवाल-(हि. पुं.) मोल लेनेवाला ।

लिवी-(सं. स्त्री.) लिपि, लिखावट ।

लिवैया-(हि. पुं.) लेनेवाला ।

लिखोड़ा-(हि. पुं.) एक मझोले आकार का वृक्ष, (वेर के बराबर इसके फल गुच्छों में लगते हैं) ।

लिहाड़ा-(हि. वि.) नीच, निकम्मा ।

लिहाड़ी-(हि. स्त्री.) उपहास, निन्दा ।

लिहाज-(अ. पुं.) लज्जा, पक्षपात, कृपा-दृष्टि ।

लिहाड़-(अ. पुं.) रजाई ।

लिहिल-(हि. वि.) चाटता हुआ ।

लीक-(हि. स्त्री.) चिह्न, लकीर, रेखा, गाड़ी आदि के चलने से बना हुआ चिह्न, बँधी हुई मर्यादा, यश, प्रतिष्ठा, हृद, प्रतिबन्ध, भूरे रंग की एक चिड़िया, रीति, प्रथा, चाल; (मुहा.) -**करके-लकीर खींचकर;** -**खींचना-**किसी विषय में दृढ़-निश्चय होना; -**पीटना-**प्राचीन प्रथा के अनुसार चलना ।

लीका-(सं. स्त्री.) लिखा, लीख ।

लीख-(हि. स्त्री.) जूँ का अंडा, एक छोटा परिमाण, लीक ।

लीचड़-(हि. वि.) जल्दी पिंड न छोड़नेवाला, चिपटनेवाला, सुस्त ।

लीची-(हि. स्त्री.) एक सदावहार वृक्ष का फल जो खाने में मीठा होता है ।

लीक्षी-(हि. स्त्री.) देह में मले हुए उबटन के साथ छूटी हुई मैल, सीठी जो रस चूस लेने पर वची हो; (वि.) नीरस, निःसार ।

लीथो-(अं. पुं.) शिलाखंड पर अक्षर खोदकर छापने की कला, यंत्र आदि ।

लीद-(हि. स्त्री.) (घोड़े, गधे, ऊँट, हाथी आदि) पशुओं का मल ।

लीन-(सं. वि.) तन्मय, मग्न, विचार में डूबा हुआ, तत्पर ।

लीनता-(सं. स्त्री.) तत्परता, तन्मयता ।

लीनो-(अं. पुं.) मुद्रण का वैज्ञानिक चमत्कारपूर्ण विद्युत्-चालित यंत्र जिसमें पूरी पंक्ति ढलकर निकलती चलती है ।

लीपना-(हि. क्रि. स.) मिट्टी, गोबर आदि की पतली तह चढ़ाना, पीतना; (मुहा.) **लीप-पीतकर बराबर करना-**पूर्ण रूप से नष्ट करना ।

लीम, लीम्-(हि. पुं.) एक प्रकार का चीड़ का पेड़, नीबू ।

लील-(हि. वि.) नीला, नीले रंग का; (पुं.) नील ।

लीलना-(हि. क्रि. स.) घोंटकर पेट में उतारना, निगलना ।

लीलया-(स. अव्य.) खेल में, सहज में, बिना परिश्रम के ।

लीला-(सं. स्त्री.) क्रीड़ा, खेल, विचित्र कार्य, प्रेम, विनोद, नायिकाका एक भाव, केवल मनोरंजन के लिये किया जानेवाला कार्य, कोई विचित्र कार्य, अवतारों के चरित्र का अभिनय, चौबीस मात्राओं का एक छंद; (हि. पुं.) काले रंग का घोड़ा; -**कमल-**(पुं.) क्रीड़ा के लिये हाथ में लिया हुआ कमल; -**कर-**

(पुं.) एक प्रकार का छन्द; -**कलह-**

(पुं.) प्रेम का कलह; -**गृह-**(पुं.)

खेल का घर; -**गोह-**(पुं.) क्रीड़ा-

गार; -**तनु-**(पुं.) वह स्वांग जो

खेल दिखलाने के लिये धारण किया

जाता है; -**तामरस-**(पुं.) देखें 'लीला

कमल; -**नटन-**(पुं.) कौतुक का

नाच; -**पद्म-**(पुं.) लीला-कमल;

-**पुरुषोत्तम-**(पुं.) श्रीकृष्ण; -**मनुष्य-**

(पुं.) छद्मवेशी मनुष्य; -**मय-**(वि.)

क्रीड़ा के भावों से परिपूर्ण; -**मात्र-**

(अव्य.) खेलते-खेलते; -**वज्र-**(पुं.)

एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र; -**वती-**

(वि. स्त्री.) विलासवती; (स्त्री.)

प्रसिद्ध ज्योतिर्विद् मास्कराचार्य की

पुत्री का नाम जिन्होंने गणित की एक

पुस्तक लिखी थी; -**वापी-**(स्त्री.)

वह बावली जिसमें तैराकी की जाय;

-**वेश्म-**(पुं.) लीलागृह; -**साध्य-**(वि.)

सहज में होनेवाला; -**स्थल-**(पुं.)

क्रीड़ा करने का स्थान ।

लीलाब्ज-(सं. पुं.) लाल कमल ।

लीलाभरण-(सं. पुं.) पद्म की माला से

बना हुआ गहना ।

लीलारविद-(सं. पुं.) क्रीड़ा, खेल, लाल

कमल ।

लीलावतार-(सं. पुं.) वह अवतार जिसमें

विष्णु ने अपनी लीला दिखलाई हो ।

लीलावधूत-(सं. वि.) स्वच्छन्द विचरने-

वाला ।

लीलोद्यान-(सं. पुं.) क्रीड़ा का उद्यान ।

लीलोपवती-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का

छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सोलह

गुरु-वर्ण होते हैं ।

लुंगाड़ा-(हि. वि.) नीच, लुच्चा ।

लुंगी-(हि. स्त्री.) कमर में लपेटने का

वस्त्र का छोटा टुकड़ा, एक प्रकार की

बड़ी चिड़िया ।

लुंचन-(सं. पुं.) उखाड़ना, नोचना,

काटना, तराशना, चुटकी से पकड़कर

खींचना ।

लुंचित-(सं. वि.) नोचा हुआ ।

लुंज-(हि. वि.) बिना हाथ-पैर के, लँगड़ा,

लूला, बिना पत्तों का (वृक्ष) टूट ।

लुंठक-(सं. पुं.) एक प्रकार का, साग ।

लुंटा-(सं. स्त्री.) लूटना, चुराना ।

लुंटाक-(सं. पुं.) तस्कर, चोर ।

लुंटाकी-(सं. स्त्री.) चोर स्त्री ।

लुंठक-(सं. पुं.) लुटेरा ।

लुंठन-(सं. पुं.) लूटना, चुराना ।

लुंठा—(सं. स्त्री.) लूटना।
 लुंठाक—(सं. पुं.) चोर, ठग, कौआ।
 लुंठि—(सं. स्त्री.) लूटपाट, चोरी।
 लुंड—(सं. पुं.) चोर।
 लुंडमंड—(हि. पुं., वि.) विना हाथ-वैर का, लंगड़ा, बिना सिर का घड़, कबंध।
 लुंडा—(हि. वि.) जिसकी पूंछ और पर झड़ गये हों या उखाड़ लिये गये हों, जिसकी पूंछ पर बाल न हों; (पुं.) लपेटे हुए सूत की पिंडी।
 लुंडिका—(सं. स्त्री.) लपेटे हुए सूत की पिंडी या गोली।
 लुंडियाना—(हि. क्रि. स.) लुंडी बनाकर लपेटना।
 लुंडी—(सं. स्त्री.) लपेटे हुए सूत की गोली।
 लुआठा—(हि. पुं.) वह लकड़ी जिसकी एक छोर जलती या जल गयी हो।
 लुआठी—(हि. स्त्री.) जलती हुई लकड़ी।
 लुआर—(हि. स्त्री.) लू।
 लुकजन—(हि. पुं.) देखें 'लोपाजन'।
 लुक—(हि. पुं.) कोई चमकदार लेप, आग की लपट, लौ।
 लुकठी—(हि. स्त्री.) देखें 'लुआठी'।
 लुकना—(हि. क्रि. अ.) आड़ में छिप जाना; (मुहा.) लुक-छिपकर-बहुत ही गुप्त रूप से।
 लुकाट—(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष जिसके आमड़े के बराबर फल खट-मीठ होते हैं।
 लुकाना, लुकाना—(हि. क्रि. अ., स.) आड़ में रखना, छिपाना, छिपना।
 लुकेठा—(हि. पुं.) देखें 'लुआठा'।
 लुखिया—(हि. स्त्री.) घूर्त स्त्री, वेश्या, रंडी।
 लुगड़ा—(हि. पुं.) कपड़ा, ओढ़नी।
 लुगड़ी—(हि. स्त्री.) देखें 'लुगदी'।
 लुगदा—(हि. पुं.) पिसी हुई गीली वस्तु का लोढ़ा।
 लुगदी—(हि. स्त्री.) पिसी हुई गीली वस्तु का छोटा गोला।
 लुगरा—(हि. पुं.) वस्त्र, कपड़ा, फटा-पुराना वस्त्र, लत्ता।
 लुगरी—(हि. स्त्री.) फटी-पुरानी धोती।
 लुगाई—(हि. स्त्री.) स्त्री, औरत, पत्नी।
 लुगी—(हि. स्त्री.) पुराना वस्त्र।
 लुगा—(हि. पुं.) देखें 'लूगा', वस्त्र।
 लुककना—(हि. क्रि. स.) झटके से खींचना।
 लुकवाना—(हि. क्रि. स.) नोचवाना, उखड़वाना।
 लुचई—(हि. स्त्री.) मँदे की पतली पूरी,

लूची।
 लुच्चा—(हि. वि.) दुराचारी, चालबाज, खोटा, चाई, नीच।
 लुच्ची—(हि. वि. स्त्री.) खोटी, नीच।
 लुंत—(हि. स्त्री.) लूट।
 लुटकना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'लटकना'।
 लुटना—(हि. क्रि. अ.) दूसरे के द्वारा लूटा जाना, डाकुओं के हाथ घन खोना, सर्वस्व नष्ट होना, निछावर होना।
 लुटरा—(हि. वि.) धुंधराला।
 लुटवाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'लुटाना'।
 लुटाना—(हि. क्रि. स.) दूसरे को लूटने देना, डाकुओं को छीनने देना, बिना मूल्य के देना, नष्ट करना, व्यर्थ फेंकना या व्यय करना, बहुतायत से वांटना, अधिक दान करना।
 लुटिया—(हि. स्त्री.) धातु का छोटा लोटा।
 लुटेरा—(हि. पुं.) डाकू, लूटनेवाला।
 लुट्टर—(हि. स्त्री.) कनकटी भेड़।
 लुठन—(सं. पुं.) भूमि पर लोटना।
 लुठना—(हि. क्रि. अ.) भूमि पर लोटना, लुढ़कना।
 लुठाना—(हि. क्रि. स.) भूमि पर लोटाना।
 लुठित—(सं. वि.) भूमि पर बारंबार लोटता हुआ।
 लुड़कना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'लुढ़कना'।
 लुड़काना—(हि. क्रि. स.) देखें 'लुढ़काना'।
 लुड़की—(हि. स्त्री.) दही में बनी हुई भाँग।
 लुड़खुड़ाना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'लड़-खड़ाना'।
 लुड़कना—(हि. क्रि. अ.) गेंद की तरह भूमि पर चक्कर खाते हुए आगे बढ़ना, ढलकना, गिरकर नीचे-ऊपर होते हुए घिसटना।
 लुड़काना—(हि. क्रि. स.) कोई वस्तु भूमि पर इस प्रकार फेंकना कि वह नीचे-ऊपर होती हुई कुछ दूर तक चली जाय।
 लुड़ना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'लुड़कना'।
 लुड़ाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'लुड़काना'।
 लुड़ियाना—(हि. क्रि. स.) गोल तुरपना या सिलाई करना।
 लुतरा—(हि. वि.) पिशुन, नटखट।
 लुतरी—(हि. वि. स्त्री.) पिशुन (स्त्री)।
 लुत्फ—(अ. पुं.) आनन्द, मनोविनोद, स्वाद, जायका।
 लुदरा—(हि. पुं.) एक प्रकार का घान।
 लुनना—(हि. क्रि. स.) खेत की तैयार उपज काटना, हटाना, दूर करना।
 लुनाई—(हि. स्त्री.) लावण्य।

लुनेरा—(हि. पुं.) खेत की उपज काटने-वाला।
 लुपना—(हि. क्रि. अ.) छिपना।
 लुप्त—(सं. वि.) अन्तहित, छिपा हुआ, अदृश्य, गायब, नष्ट।
 लुप्तोपम—(सं. वि.) उपमाशून्य, जिसमें उपमा का अंग लुप्त हो।
 लुप्तोपमा—(सं. स्त्री.) वह उपमा अलंकार जिसमें उसका कोई अंग लुप्ता हो।
 लुबरी—(हि. स्त्री.) किसी तरल पदार्थ के नीचे बैठे हुई मूल, तलछट।
 लुबध(धा)—(हि. वि.) देखें 'लुब्ध'।
 लुबधना—(हि. क्रि. अ.) लुब्ध होना।
 लुब्ध—(सं. वि.) आकांक्षायुक्त, लोभी, मोहित, तन-मन की सुध भूला हुआ; (पुं.) व्याध, बहेलिया; -क—(पुं.) व्याध, बहेलिया, लंपट, उत्तरी गोलार्ध का एक बहुत चमकीला तारा; -ता—(स्त्री.) लुब्ध होने का भाव या धर्म, लोभ।
 लुब्धना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'लुबधना'।
 लुब्धापति—(सं. स्त्री.) वह प्रौढ़ा नायिका जो पति तथा कुल के बड़े लोगों से लज्जा करती हो।
 लुभाना—(हि. क्रि. अ. स.) लुब्ध होना, मोह में पड़ना, तन-मन की सुध भूलना, लालच में पड़ना, मोहित करना, मोह में डालना, ललचाना, रिश्वाना।
 लुभित—(हि. वि.) मोहित लुभाया हुआ।
 लुरका, लुरकी—(हि. पुं., स्त्री.) कान में पहनने की छोटी वाली, मुरकी।
 लुरना—(हि. क्रि. अ.) लहराना, झूलना, झुक पड़ना, प्रवृत्त होना।
 लुरियाना—(हि. क्रि. अ.) सहसा आ जाना।
 लुरी—(हि. स्त्री.) हाल की व्याई हुई गाय।
 लुलन—(सं. पुं.) आन्दोलित होना, झूलना।
 लुलना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'लुरना'।
 लुलाप—(सं. पुं.) महिप, भैंसा।
 लुलित—(सं. वि.) लटकता या झलता हुआ।
 लुवार—(हि. स्त्री.) जोर से बहनेवाली गरम हवा, लू।
 लुशई—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की चाय।
 लुहना—(हि. क्रि. अ.) लुभाना।
 लुहार—(हि. पुं.) लोहे का काम करने-वाला, लोहे की वस्तु बनाने वाला, वह जाति जो लोहे की वस्तु बनाती है।
 लुहारिन—(हि. स्त्री.) लुहार की स्त्री।
 लुहारी—(सं. स्त्री.) लुहार की स्त्री, लोहे की वस्तुएँ बनाने का काम।
 लुंबरी—(हि. स्त्री.) लोमड़ी।

लू-(हि स्त्री.) ग्रीष्म ऋतु की गरम हवा, गरम हवा का झोंका; (मुहा०)
-लगना या मारना-गरम हवा लगने से ज्वर आदि होना ।

लूक-(हि.पुं.) अग्नि की ज्वाला, आग की लपट, लुआठी, लुत्ती, उल्का, टूटा हुआ तारा; (स्त्री.) गरम हवा, लू; (मुहा.)
-लगाना-आग लगाना ।

लूकट-(हि. पुं.) लुआठी ।

लूकना-(हि.क्रि.स.) आग लगाना, जलाना ।

लूका-(हि. पुं.) अग्नि की ज्वाला या लपट, लुआठी, मछली फँसाने का एक प्रकार का जाल ।

लूकी-(हि. स्त्री.) स्फूर्णल, चिनगारी ।

लूक्ष-(सं. वि.) रूक्ष, रूखा ।

लूखा-(हि. वि.) रूखा, रूक्ष ।

लूगा-(हि. पुं.) वस्त्र, कपड़ा, घोती ।

लूट-(हि. स्त्री.) किसी का घन बलपूर्वक लूटने की क्रिया, डकैती, लूटने से मिला हुआ माल; -क-(पुं.) लूटने वाला, डाकू, लुटेरा, शोभा म बढ़ने वाला; -खूँद-(स्त्री.) डाका, लूटमार; -मार, -पाट-(पुं.) मारपीटकर किसी का घन छीन लेना ।

लूटना-(हि. क्रि. स.) जबरदस्ती छीनना, बलपूर्वक नष्ट करना, धोखे से या अन्यायपूर्वक किसी का घन हर लेना, बहुत अधिक मूल्य लेना, ठगना, मोहित करना ।

लूटि-(सं. स्त्री.) देखें 'लूट' ।

लूता-(सं. स्त्री.) मकड़ी; -तंतु-(पुं.) मकड़े का जाला; -मकँटक-(पुं.) एक प्रकार का बंदर, वनमानुस ।

लूतिका-(सं. स्त्री.) मकड़ी ।

लूती-(सं. स्त्री.) लुआठी ।

लूनना-(हि. क्रि. स.) देखें 'लूनना' ।

लूम-(हि.पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग ।

लूमना-(हि. क्रि. अ.) लटकना ।

लूमविष-(सं. पुं.) विच्छू ।

लूयर-(हि. वि.) युवा, सयाना ।

लूरना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'लूरना' ।

लूला-(हि. वि.) जिसका हाथ कट गया या बेकाम हो गया हो, लुंजा ।

लूलू-(हि. वि.) मूख ।

लूसन-(हि. पुं.) एक प्रकार का फलदार वृक्ष ।

लूई-(हि. पुं.) बँधा हुआ मल जो बत्ती के रूप में निकलता है ।

लूड़ी-(हि. स्त्री.) बकरी, जँट आदि का बँधा हुआ मल ।

लूँडौरी-(हि. स्त्री.) चौपायों को दाना खिलाने का पात्र ।

लूँहड़, लूँहड़ा-(हि. पुं.) गाय, बैल आदि का झुंड ।

लूँ-(हि. अव्य.) आरंभ होकर, शुरू होकर, तक, पर्यन्त ।

लूँई-(हि. स्त्री.) अवलेह, खूब गाढ़ा पकाया हुआ लसीला पदार्थ, लपसी, पानी घोलकर औटाया हुआ मैदा जो कागज आदि चिपकाने के काम में आता है, सुरखी और चूना मिलाकर गाढ़ा घोला हुआ मसाला जिससे इंटों की जोड़ई की जाती है; -पूँजी-(स्त्री.) सर्वस्व ।

लूँख-(सं. पुं.) लिपि, लिखे हुए अक्षर, लिखी हुई बात, लिखाई, लिखावट, लेखा, हिसाब-किताब, देवता; (हि. स्त्री.) पक्की बात, लकीर; -क-(पुं.) लिपिक, लिखनवाला, ग्रन्थकार, किसी विषय पर लिखकर अपना विचार प्रकट करनेवाला; -न-(पुं.) लिखने का कार्य, लिखने की कला या विद्या, चित्र बनाना, हिसाब करना, कास, खाँसी; -पत्र-(पुं.) लिखा हुआ पक्का कागज, दस्तावेज; -पत्रिका-(स्त्री.) लिखे हुए आवश्यक कागज-पत्र; -प्रणाली-(स्त्री.) लिखने का ढंग; -शैली-(स्त्री.) लेख प्रणाली; -हार-(पुं.) पत्र-वाहक, चिट्ठी-पत्री ले जानेवाला; -हारक, -हारी-(पुं.) चिट्ठी ले जानेवाला ।

लूँखना-(हि. क्रि. स.) लिखना, गिनना, चित्र बनाना, विचार करना; (मुहा.)
-जोखना-ठीक अनुमान लगाना ।

लूँखनी-(सं. स्त्री.) कलम ।

लूँखनीय-(सं. वि.) लिखने योग्य ।

लूँखा-(सं. स्त्री.) लिखावट, रेखा, लकीर; (हि. पुं.) हिसाब-किताब, गिनती, कूत, अनुमान, विचार, आय-व्यय आदि का विवरण; (मुहा.)
-डेवड़ करना-हिसाब साफ करना या चुकती लिखना ।

लूँखावही-(हि. स्त्री.) वह वही जिसमें लेन-देन का हिसाब लिखा जाता है, रोकड़वही ।

लूँखिका-(सं. स्त्री.) पुस्तक लिखनेवाली ।

लूँखित-(सं. वि.) लिखा या लिखवाया हुआ ।

लूँख्य-(सं. व.) लेखनीय, लिखने लायक, लिखा जाने योग्य; (पुं.) लेख ।

लूँख्यगत-(सं. वि.) लिखा हुआ, चिह्न किया हुआ, चित्रित किया हुआ ।

लूँख्यपत्र-(सं. पुं.) ताड़ का पत्ता, लेख-पत्र, दस्तावेज, रसीद ।

लूँख्यमय-(सं. वि.) लिखा हुआ ।

लूँख्यस्थान-(सं. पुं.) वह स्थान जहाँ हिसाब-किताब लिखने का काम होता है ।

लूँख्यारूढ़-(सं. वि.) जिसके विषय में लिखापढ़ी हुई हो ।

लूँजम-(फा. पुं.) घनुष-वाण चलाने का एक उपकरण, बच्चों को व्यायाम सिखाने के लिए व्यवहृत सिकड़ी, डंडे आदि का बना हुआ उपकरण ।

लूँजुर, लूँजुरी-(हि. स्त्री.) डोरी, रस्ती ।

लूँट-(हि. स्त्री.) सुरखी, चूना और कंकड़ मिलाकर पीटी हुई छत या फर्श ।

लूँटना-(हि. क्रि. अ.) संपूण शरीर को भूमि या विस्तर पर पड़ा या शायित रखना, पौढ़ना, किसी वस्तु का एक ओर झुककर भूमि पर गिर जाना, मर जाना ।

लूँटा-(हि. पुं.) गल्ले की मडी ।

लूँटाना-(हि. क्रि. स.) दूसरे को लेटने में प्रवृत्त करना ।

लूँद-(हि. पुं.) फाल्गुन में गाया जानेवाला एक प्रकार का गीत; (अ.पुं.) लोहा खरादने या पेंच आदि बनाने का यन्त्र ।

लूँदी-(हि. स्त्री.) जलाशय के किनारे रहनवाली एक प्रकार की चिड़िया ।

लूँन-(हि. पुं.) लेने की क्रिया या भाव, लहना; -दार-(पुं.) लेनेवाला, लहनु-दार, महाजन; -देन-(पुं.) लेन और

देन का व्यवहार, महाजनी ।

लूँना-(हि. क्रि. स.) प्राप्त करना, थामना, कोई वस्तु स्वीकार करना, संभोग करना, सचय करना, सेवन करना, लज्जित करना, किसी कार्य का मार ग्रहण करना, पहुँचाना, अग-वानी करना, ऋण लेना, जीतना, भागते हुए को पकड़ना, मोल लेना, कार्य समाप्त करना, अपने अधिकार में करना; (मुहा.) आड़े हाथ लेना-

व्यंग्य की बातें कहकर लज्जित करना; ले डालना-हराना; ले-दे करना-कलह करना; -एक न देना दो-किसी प्रकार का संसर्ग न रखना; लेने के देने पड़ना-लाम के बदले हानि होना; ले मरना-अपने साथ दूसरों का नाश करना ।

लेप-(सं. पुं.) लेई के समान कोई गाढ़ी वस्तु जो किसी वस्तु के ऊपर फलाकर पोती जाती है, उवटन ।

लेपक—(सं. पुं.) लेप करनेवाला।
 लेपना—(हि. क्रि. स.) किसी गाढ़ी गीली वस्तु की तह चढ़ाना, पोतना।
 लेपालक—(हि. पुं.) दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र।
 लेपी—(सं. पुं.) देखें 'लेपक'।
 लेप्य—(सं. वि.) लेपन करने योग्य, लीपने-पोतने योग्य; -नारी—(स्त्री.) पत्थर या मिट्टी की बनी हुई स्त्री की मूर्ति; -मयी—(स्त्री.) कठपुतली; -स्त्री—(स्त्री.) वह स्त्री जिसके अंग पर चंदन आदि का लेप लगा हो।
 लेबरना—(हि. क्रि. स.) ताने में माँड़ी लगाना।
 लेबुल—(अं. पुं.) नाम, पता आदि का विवरण लिखा हुआ प्रेष्य सामग्रियों के ऊपर चिपकाया जानेवाला कागज का टुकड़ा।
 लेर—(हि. स्त्री.) लहर।
 लेरुआ (वा)—(हि. पुं.) गाय का बछड़ा।
 लेलिहान—(सं. पुं.) शिव, महादेव, सप; (वि.) बारंबार चाटनेवाला।
 लेव—(हि. पुं.) लेप, कहगिल, आँच पर चढ़ाने के पहले पात्रों की पेंदी में मिट्टी का लेप करना, लेवा।
 लेवा—(हि. पुं.) मिट्टी का गिलावा, कहगिल, लेप, गाय-मैस का थन; (वि.) लेनेवाला।
 लेवार—(हि. पुं.) लेव, गिलावा।
 लेवाल—(हि. पुं.) लेनेवाला।
 लेश—(सं. पुं.) कण, अणु, सूक्ष्मता, यत्-किंचित् चिह्न, संसर्ग, लगाव, वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु के वर्णन में एक ही अंश में रोचकता रहती है, एक प्रकार का गाना; (वि.) अल्प, थोड़ा।
 लेश्या—(सं. स्त्री.) आलोक, दीप्ति, जैन धर्म के अनुसार जीव की वह अवस्था जिसके कारण कर्म उसे बाँधता है।
 लेषना—(हि. क्रि. स.) देखें 'लखना', 'लिखना'।
 लेसना—(हि. क्रि. स.) जलाना, भीत पर मिट्टी का गिलावा पोतना, चिपकाना, सटाना, लेप करना, पोतना, चुगली खाना, विवाद उत्पन्न करने के लिए किसी को उत्तेजित करना।
 लेह—(सं. पुं.) आहार, भोजन, रस, अवलेह।
 लेहन—(सं. पुं.) जिह्वा से स्वाद लेना, चाटना।
 लेहना—(हि. पु.) खेत में कटी हुई उपज का वह अंश जो नाई, घोवी आदि को दिया जाता है, देखें 'लहना'।

लेहसुर—(हि. पुं.) कुम्हारों का मिट्टी सानने का औजार।
 लेहाजा—(अ. अव्य.) इस कारण से, इसलिये।
 लेहाड़ा—(हि. वि.) देखें 'लिहाड़ा'; -पन—(पुं.) देखें 'लिहाड़ापन'।
 लेहाड़ी—(हि. स्त्री.) लिहाड़ी, अपमान।
 लेह्य—(सं. पुं.) अमृत, चाटन का पदार्थ; (वि.) चाटने के योग्य।
 लैंगिक—(सं. वि.) लिंग-संबंधी; (पुं.) मूर्ति बनानेवाला, वैशेषिक दर्शन के अनुसार अनुमान, प्रमाण।
 लै—(हि. अव्य.) पर्यन्त, तक।
 लैप—(हि. पुं.) एक प्रकार का अगहनिया धान।
 लैला—(फा. स्त्री.) लैला-मजनों की प्रेम-कहानी की नायिका, प्रेयसी, सुंदरी।
 लैस—(अ. वि.) हथियार, वरदी आदि से सुसज्जित।
 लौं—(हि. अव्य.) तक।
 लौंडी—(हि. स्त्री.) कान का लोलक।
 लौंदा—(हि. पुं.) किसी गीली पदार्थ का बँधा हुआ गोला।
 लो—(हि. अव्य.) इसका प्रयोग श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिये होता है।
 लोइ—(हि. पुं.) लोग, जन; (स्त्री.) दीप्ति, प्रभा।
 लोइन—(हि. पुं.) लावण्य।
 लोई—(हि. स्त्री.) गंधे हुए आटे की गीली जिसको बेलकर रोटी बनाई जाती है, एक प्रकार का कंबल।
 लोकंजन—(हि. पुं.) 'लोकंजन'।
 लोकंदा—(हि. पुं.) विवाह के बाद ससुराल जानेवाली कन्या के डोले के साथ दासी को भेजना।
 लोकंदी—(हि. स्त्री.) ससुराल जाते समय कन्या के साथ भेजी हुई दासी।
 लोक—(सं. पुं.) भुवन, पुराण के अनुसार ऊपर सात लोक हैं; यथा—भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्य लोक; और सात लोक नीचे हैं; वचक के अनुसार विप जिसके दो भेद हैं—स्यावर और जंगम; (वृक्ष, लता, तृण आदि स्यावर; तथा पशु, पक्षी, कीट, मनुष्य आदि जंगम विष हैं), प्राणी, जन, मनुष्य, प्रदेश, दिशा, यश, कीर्ति, निवास-स्थान, संसार; -कंदक—(पुं.) टुट्ट मनुष्य; -कंप—(वि.) मनुष्यों को डरानेवाला; -कया—

(स्त्री.) जनश्रुति; -कर्ता—(पुं.) शिव, विष्णु; -कल्प—(वि.) संसार की स्थिति के सदृश; -कांत—(वि.) लोकप्रिय; -कार—(पुं.) लोककर्ता; -कृत—(पुं.) सृष्टिकर्ता; -कृते—(अव्य.) लोगों के लिये; -क्षित्—(वि.) आकाश में रहनेवाला; -गति—(स्त्री.) लोकाचार, जीवन-यात्रा; -गाथा—(स्त्री.) जनश्रुति; -गुरु—(पुं.) जगद्गुरु; -चक्षु—(पुं.) लोगों के नेत्र-स्वरूप, सूर्य; -चर—(वि.) संसार में घूमनेवाला; -चरित्र—(पुं.) मनुष्यों के जीवन का इतिहास; -जननी—(स्त्री.) लक्ष्मी; -जित्—(वि.) संसार को जीतनेवाला; -ज्ञ—(वि.) मानव-तत्त्वदर्शी; -ज्येष्ठ—(पुं.) बुद्धदेव; -तंत्र—(पुं.) संसार का इतिहास, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन; -तत्त्व—(पुं.) मानव-जाति का ज्ञान; -तः—(अव्य.) लोक-प्रथा के अनुसार; -तुषार—(पुं.) कपूर; -त्रय—(पुं.) तीनों लोक; यथा—स्वर्ग, मर्त्य और रसातल; -दंबक—(पुं.) ठग, वंचक; -द्वार—(पुं.) स्वर्ग का द्वार; -घाता—(पुं.) शिव, महादेव; -धारिणी—(स्त्री.) पृथ्वी; -धुनि—(स्त्री.) जनश्रुति; -नाथ—(पुं.) विष्णु, शिव, राजा; -नेता—(पुं.) लोगों का नायक, शिव; -प—(पुं.) देख 'लोकपति'; -पति—(पुं.) विष्णु, लोकपाल; -पथ—(पुं.) यातायात का पथ, लोकाचार; -पद्धति—(स्त्री.) सामान्य रीति; -पाल—(पुं.) दिक्पाल, पुराण के अनुसार आठ दिशाओं के आठ लोकपाल हैं, यथा—पूर्व दिशा का इन्द्र, दक्षिण-पूर्व कोण का अग्नि, दक्षिण का यम, दक्षिण-पश्चिम कोण का सूर्य या नैर्ऋत्य पश्चिम का वरुण, उत्तर-पश्चिम कोण का वायु, उत्तर का कुबेर तथा उत्तर-पूर्व कोण का ईशान हैं, शिव, विष्णु, राजा; -प्ता—(स्त्री.) लोकपाल का धर्म; -पितामह—(पुं.) ब्रह्मा; -पूजित—(वि.) जन-समाज में मान्य; -प्रकाशन, -प्रकाशक—(पुं.) सूर्य; -प्रत्यय—(पुं.) वह जो संसार में सर्वत्र प्रचलित हो; -प्रसिद्धि—(स्त्री.) यश, ह्यति; -प्रवाद—(पुं.) जनप्रवाद, जनश्रुति; -बंधु—(पुं.) शिव, सूर्य; -बांधव—(पुं.) सब का मित्र, सूर्य; -भर्ता—(पुं.) जन-साधारण का वरदाता; -भाज्—(वि.) स्वानाधिकारी;

-भावन-(वि.,पुं.) संसार का कल्याण करनेवाला; -मत-(पुं.) जनता की राय; -मर्यादा-(स्त्री.) किसी व्यक्ति का विशिष्ट सम्मान, लोक-प्रथा; -माता-(स्त्री.) संसार की जननी, लक्ष्मी; -मार्ग-(पुं.) प्रचलित रीति, साधारण पन्थ; -यात्रा-(स्त्री.) जीवन-यात्रा, लोक-व्यापार; -रंजन-(वि.) जनता को प्रसन्न करनेवाला; -रक्षक-(पुं.) नृप, राजा; -रव-(पुं.) जनश्रुति; -लोचन-(पुं.) सूर्य; -वचन-(पुं.) जनप्रवाद, अफवाह; -वत्-(वि.) लोकसदृश; -वर्तन-(पुं.) मनुष्य-चरित्र; -वाद-(पुं.) जनश्रुति; -वार्ता-(स्त्री.) जनरव; -वाह्य-(वि.) लोक-निन्दित, आचारभ्रष्ट; -विक्रुष्ट-(वि.) लोक-निन्दित; -विज्ञात-(वि.) प्रसिद्ध, विख्यात; -विधि-(पुं.) सृष्टिकर्ता; -विरुद्ध-(वि.) जनमत के विरुद्ध; -विश्रुत-(वि.) लोक या संसार में विख्यात; -विश्रुति-(स्त्री.) जनश्रुति; -विसर्ग-(पुं.) जगत्,सृष्टि का अंत; -विस्तार-(पुं.) संसार में प्रसिद्धि; -वृत्त-(पुं.) लौकिक आचार; -वृत्तांत-(पुं.) मनुष्य-चरित्र, इतिहास; -व्यवहार-(पुं.) सर्वसाधारण में प्रचलित रीति; -व्रत-(पुं.) मनुष्य-समाज में प्रचलित रीति; -श्रुति-(स्त्री.) जनश्रुति; -संकर-(पुं.) समाज में झूठा व्यवहार करनेवाला; -संक्षय-(पुं.) संसार का नाश; -संग्रह-(पुं.) मनुष्यों की भीड़, सम्पूर्ण संसार; -सत्ता-त्मक-(वि.) जिस व्यवस्था में शासन जनता के अधिकार में हो; -साक्षी-(पुं.) ब्रह्म, अग्नि, सूर्य; -सात्-(अव्य.) सर्वसामान्य की भलाई के लिए; -सात्त-(वि.) जनता के कल्याण के लिए किया हुआ; -साधक-(वि.) संसार की सृष्टि करनेवाला; -सिद्ध-(वि.) प्रचलित, प्रसिद्ध; -सुंदर-(वि.) जिसको सामान्यतः लोग अच्छा कहते हों; -स्कंद-(पुं.) तमाल-वृक्ष; -स्थल-(पुं.) दैनिक घटना; -स्थिति-(स्त्री.) प्रचलित नियम; -हांवी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की हल्दी; -हार-(पुं., वि.) संसार को नष्ट करनेवाला; -हित-(पुं.) संसार की भलाई; -हिता-(स्त्री.) कुलधी।
लोकना-(हि. क्रि. स.) ऊपर से गिरती

हुई वस्तु को हाथ से पकड़ लेना, बीच में ही ले लेना।
लोकाकाश-(सं.पुं.) शून्य स्थान, आकाश।
लोकाचार-(सं. पुं.) लोक-व्यवहार, जन-समूह का आचार।
लोकाट-(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष जिसमें बेर के सदृश मीठे फल लगते हैं।
लोकातिग-(सं. वि.) अद्भुत, असामान्य।
लोकातिशय-(सं. वि.) असाधारण, प्रथा के बाहर।
लोकात्मा-(सं. पुं.) जगत् की आत्मा के तुल्य विष्णु।
लोकादि-(सं. पुं.) संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा।
लोकाधिप-(सं. पुं.) लोकपाल, नरपति।
लोकाधिपति-(सं. पुं.) लोकपाल, देवता।
लोकाना-(हि. क्रि. स.) उछालना, फेंकना।
लोकानुग्रह-(सं. पुं.) संसार की भलाई।
लोकानुराग-(सं. पुं.) संसार का प्रेम।
लोकापवाद-(सं. पुं.) लोकनिन्दा, जनापवाद।
लोकाम्युदय-(सं. पुं.) जनता की उन्नति।
लोकायत-(सं. पुं.) चार्वाक-शास्त्र, वह मनुष्य जो इस लोक के अतिरिक्त दूसरे लोक को न मानता हो, एक छन्द का नाम जिसको दुर्मिल भी कहते हैं।
लोकावेक्षण-(सं. पुं.) संसार की भलाई चाहना।
लोकेश-(सं. पुं.) ब्रह्मा, लोकपाल, इन्द्र, पारा।
लोकेश्वर-(सं. पुं.) लोकपाल।
लोकैषणा-(सं. स्त्री.) उत्कर्ष प्राप्त करने की इच्छा।
लोकोक्ति-(सं. स्त्री.) कहावत, वह बलकार जिसमें किसी लोकोक्ति के आधार पर कोई सत्य व्यक्त किया जाता है।
लोकोत्तर-(सं. वि.) अद्भुत, विलक्षण।
लोखर-(हि. पुं.) (नाई, बढई, लोहार आदि के) अस्त्र।
लोग-(हि. पुं.) जन, मनुष्य।
लोगाई-(हि. स्त्री.) देखें 'लुगाई', स्त्री।
लोच-(सं. पुं.) अश्रु, आँसू; (हि. पुं.) लचक, कोमलता, अमिलापा, अच्छा दंग।
लोचक-(सं. पुं.) मांस-पिण्ड, भाँख की पुतली, कागज, केला, सिर पर पहनने का एक आभूषण, निर्मोक या कंचुली।
लोचन-(सं. पुं.) आँख, नेत्र, जीरा, क्षरोक्षा; -पथ-(पुं.) दृष्टि-पथ; -हित-(वि.) नेत्रों के लिये लाभ-

दायक; -हिता-(स्त्री.) तृप्तिया।
लोचना-(हि. क्रि. अ., स.) प्रकाशित करना, अमिलाषा करना, शोभित होना, रुचि उत्पन्न करना, ललचाना।
लोचशिर-(सं. पुं.) अजमोदा।
लोचून-(हि. पुं.) लोहे का चूर।
लोजंग-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की नाव।
लोट-(हि. स्त्री.) लोटने की क्रिया या भाव; (पुं.) उतार, घाट, देखें 'नोट'।
लोटन-(हि. पुं.) एक प्रकार का हल, एक प्रकार का लोटनेवाला कव्तर, छोटी-छोटी कंकड़ियाँ जो यातायात में इधर-उधर लूढ़कती हैं।
लोटना-(हि. क्रि. अ.) लूढ़कना, विश्राम करना, लेटना, चकित होना, कष्ट से तड़पना, करबटें बदलना, लोट जाना, मूर्च्छित होना।
लोटपटा-(हि. पुं.) विवाह में वर और वधू का पीढा या स्थान बदलने की रीति, उलट-फेर, दाँव का इधर से उधर हो जाना।
लोटा-(हि. पुं.) पानी आदि रखने का घातु का बना हुआ छोटा पात्र।
लोटिया-(हि. स्त्री.) छोटा लोटा।
लोटी-(हि. स्त्री.) छोटा लोटा।
लोड़न-(सं. पुं.) इधर-उधर हिलना, लूढ़कना, मंथन।
लोड़ना-(हि. क्रि. अ.) आवश्यकता होना।
लोढ़ा-(हि. पुं.) सिल पर किसी वस्तु को पीसने के काम में आनेवाला पत्थर का गोल लंबोतरा टुकड़ा, बट्टा; (मुहा.) -डालना-बराबर या सम करना।
लोढ़िया-(हि. स्त्री.) छोटा लोढ़ा, बट्टा।
लौत-(सं. पुं.) चोरी का धन, चिह्न, अश्रु, आँसू।
लौत्र-(सं. पुं.) नेत्रजल, आँसू।
लौथ-(हि. स्त्री.) मृत शरीर, शव; (मुहा.) -गिरना-मारा जाना; -डालना-हत्या करना।
लौथड़ा-(हि. पुं.) मांस का बड़ा पिण्ड जिसमें हड्डी न हो।
लौदी-(पुं.) भारत के एक मुसलमान राजवंश का नाम।
लोध-(सं. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष जिसकी छाल और लकड़ी औषधों में प्रयुक्त होती है।
लोघरा-(हि. पुं.) एक प्रकार का ताँवा जो जापान से आता है।
लोध्र-(सं. पुं.) देखें 'लोध'; -तिलक-

(पुं.) एक अलंकार जो उपमा का एक भेद है; -पुष्प-(पुं.) महुए का वृक्ष; -मुष्पिणी-(स्त्री.) छोटे धव का वृक्ष।
 लौन-(हिं. पुं.) लवण, नमक, लावण्य, सुन्दरता; (मुहा.) (किसी का) -खाना-किसी के दिये हुए अन्न पर निर्वाह करना; (किसी का) -निकलना-विश्वासघात का फल भोगना; -न मानना-उपकार न मानना; जले या कटे पर-लगाना-कष्ट पर कष्ट देना; -सा लगाना-अप्रिय मालूम होना।
 लौना-(हिं. वि.) नमकीन, सुन्दर, सलोना; (पुं.) एक प्रकार का विकार जो ईंट, पत्थर तथा मिट्टी की भीतों में लग जाता है जिससे इनका ऊपरी तल झड़ने लगता है, नमकीन मिट्टी जिससे शोरा बनाया जाता है, वह घूल या मिट्टी जो लौना लगने पर भीत से झरती है, घोंघे की जाति का एक कीड़ा, जाड़-टोना करनेवाली एक कल्पित डाइन का नाम; (क्रि. स.) लवना।
 लौनाई-(हिं. स्त्री.) लावण्य, सुन्दरता।
 लौनार-(हिं. पुं.) नमक बनाने का स्थान।
 लौनिका-(हिं. स्त्री.) लोनी नामक साग।
 लौनिया-(हिं. पुं.) एक जाति का नाम, (इन लोगों का व्यवसाय नमक बनाना है); (स्त्री.) लोनी नामक साग।
 लौनी-(हिं. स्त्री.) कुलफे की जाति का एक प्रकार का साग, एक प्रकार की क्षार-युक्त मिट्टी, वह क्षार जो चने आदि की पत्तियों में होता है।
 लोप-(सं. पुं.) विच्छेद, क्षय, नाश, अभाव, अदर्शन, अन्तर्वान होना, छिपना, व्याकरण का वह नियम जिसके अनुसार शब्द-साधन में कोई वर्ण लुप्त हो जाता है।
 लोपक-(सं. वि.) विघ्न या बाधा डालने-वाला।
 लोपन-(सं. पुं.) नाश करना, लुप्त करना, हटाना।
 लोपना-(हिं. क्रि. अ., स.) लुप्त होना, छिपना, मिटाना।
 लोपांजन-(सं. पुं.) वह कल्पित अंजन जिसके लगाने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है।
 लोपापाक-(सं. पुं.) शृगाल, सियार।
 लोपापिका-(सं. स्त्री.) शृगाली।
 लोपामुद्रा-(सं. स्त्री.) अगस्त्य मूर्ति की पत्नी।
 लोपायक-(सं. पुं.) शृगाल, सियार।

लोपाश, लोपाशक-(सं. पुं.) शृगाल।
 लोपाशिका-(सं. स्त्री.) सियारिन।
 लोपी-(सं. वि.) क्षति पहुँचानेवाला।
 लोप्ता-(सं. वि.) नियम भंग करनेवाला, हानि पहुँचानेवाला।
 लोप्त्र-(सं. पुं.) चोरी का माल।
 लोप्य-(सं. वि.) लोप या नाश करने योग्य।
 लोबा-(हिं. स्त्री.) लोमड़ी।
 लोबान-(फा. पुं.) एक वृक्ष से मिलने-वाला सुगन्धित गोंद, झाल आदि।
 लोविया-(हिं. पुं.) एक प्रकार का सफेद तथा बड़े आकार का बोड़ा।
 लोभ-(सं. पुं.) दूसरे के पदार्थ को लेने की वासना, लालच, आकांक्षा, लिप्सा, वांछा, कृपणता, कंजूसी।
 लोभन-(सं. पुं.) लोभ, लालच।
 लोभना-(हिं. क्रि. अ., स.) मुग्ध करना, लुभाना, लुब्ध होना।
 लोभनीय (सं. वि.) लोभ के योग्य।
 लोभयान-(सं. वि.) लालच बढ़ानेवाला।
 लोभविजयी-(सं. पुं.) वह राजा जो धन लेकर युद्ध न करना चाहता हो।
 लोभाना-(हिं. क्रि. अ., स.) मुग्ध होना, मोहित होना, मुग्ध करना।
 लोभित-(सं. वि.) लुब्ध, लुभाया हुआ।
 लोभी-(सं. वि.) लोभ करनेवाला, लालची।
 लोभ्य-(सं. वि.) लालच करने योग्य।
 लोम-(सं. पुं.) शरीर के रोमें, रोम, बाल, पूँछ; (हिं. पुं.) लोमड़ी; -क-(वि.) रोमयुक्त; -कूर्ण-(पुं.) खरगोश, खरहा; -कौट-(पुं.) जू; -कप-(पुं.) शरीर में रोम की जड़ में का छिद्र; -गर्त-(पुं.) देखें 'रोमकूप'; -ज्ज-(वि.) लोम-नाशक; -पाद-(पुं.) अंग-देशीय एक राजा जो महाराज दशरथ के मित्र थे; -प्रवाही-(वि.) लोमयुक्त; -मणि-(पुं.) लोम-निर्मित कवच; -यूक-(पुं.) ऊनी वस्त्र काटनेवाला कीड़ा; -वत्-(वि.) लोम के सदृश; -वाहन-(वि.) लोमयुक्त; -विचर-(पुं.) लोमकूप; -श-(पुं.) एक प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि जिनको पुराणों ने अमर माना है; (वि.) बड़े-बड़े रोओंवाला; -०कर्ण-(पुं.) खरगोश, खरहा; -शा-(स्त्री.) केवाँच, सौंफ, काकजंघा; -शी-(स्त्री.) ककड़ी; -श्य-(पुं.) रोयें की अधिकता; -संहर्षण-(पुं.) रोमांच; -सार-(पुं.) मरकत मणि;

-सिक-(स्त्री.) सियारिन; -हर्षे-(पुं.) रोमांच, पुलक, एक राक्षस का नाम; -हर्षक-(वि.) अति भयंकर; -हर्षण-(पुं.) भय आदि से रोंगटे खड़े होना; -हृत्-(पुं.) हस्ताल।
 लोमड़ी-(हिं. स्त्री.) कुत्ते या गौदड़ की जाति का एक वन्य पशु।
 लोमाश-(सं. पुं.) शृगाल, गौदड़।
 लोय-(हिं. पुं.) लोग, नयन, आँख; (स्त्री.) आग की लौ, लपट; (अव्य.) देखें 'लौ'।
 लोयन-(हिं. पुं.) नयन, नेत्र।
 लोर-(हिं. पुं.) कान का कुण्डल, लटकन, आँसू; (वि.) उत्सुक, चंचल।
 लोरना-(हिं. क्रि. अ.) चंचल होना, लोटना, झुकना, लिपटना।
 लोरी-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का गीत, (बच्चों को सुलाने के लिए स्त्रियाँ यह गीत गाती हैं।)
 लोल-(सं. वि.) चंचल, कंपायमान, हिलता-डोलता हुआ, क्षण में नष्ट होनेवाला, अति उत्सुक, क्षणिक; (पुं.) लिंगेद्रिय।
 लोलक-(सं. पुं.) वाली आदि में लगा हुआ लटकन, कान की लोलकी, घंटी का लटकन।
 लोलकी-(हिं. स्त्री.) कान का नौचे का लटकता हुआ भाग, ललरी।
 लोलदिनेश-(सं. पुं.) लोलार्क नामक सूर्य।
 लोलना-(हिं. क्रि. अ.) हिलना।
 लोला-(सं. स्त्री.) जिह्वा, जीम, लक्ष्मी, चंचला स्त्री, एक योगिनी का नाम, मधु नामक दैत्य की माता, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चौदह अक्षर होते हैं; (हिं. पुं.) लड़कों का एक प्रकार का खिलौना।
 लोलाक्षिका-(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसकी आँखें चंचल हों।
 लोलार्क-(सं. पुं.) एक सूर्य; -कुंड-(पुं.) काशी के एक तीर्थ का नाम।
 लोलित-(सं. वि.) झिझिल, ढीला, कंपित।
 लोलिनी-(सं. स्त्री.) चंचल प्रकृति की स्त्री।
 लोलुप-(सं. वि.) लोभी, लालची, चटोर, बहुत उत्सुक; -ता-(स्त्री.) लालच।
 लोलुभ-(सं. वि.) देखें 'लोलुप', लालची।
 लोलुव-(सं. वि.) बारंबार काटनेवाला।
 लोलोर-(सं. पुं.) एक नरक का नाम।
 लोवा-(हिं. स्त्री.) लोमड़ी; (पुं.) तीतर की जाति का एक पक्षी, लवा।

लोष्ट—(सं. पुं.) ईट या पत्थर का टुकड़ा, ढेला; (पुं.)—घन—किसान का खेत के ढेले फोड़ने का उपकरण, हेंगा;—मय—(वि.) ढेले से पूर्ण।
 लोहड़ा—(हिं. पुं.) लोहे की छोटी कड़ाही, तसला।
 लोह—(सं. पुं.) लोहा नामक धातु;—कांत—(पुं.) चुंबक;—कार—(पुं.) लोहार;—किट्ट—(पुं.) लोहे की मेल;—गिरि—(पुं.) एक पर्वत का नाम;—घातक—(पुं.) लोहार;—चालिका—(स्त्री.) लोहे का बखतर;—चूण—(पुं.) लोहे का बुरादा;—ज—(पुं.) मंडूर, कांसा;—जाल—(पुं.) वस्त्र, बखतर;—जित्त—(पुं.) हीरक, हीरा;—झारक—(पुं.) एक नरक का नाम;—नाल—(पुं.) नाराच नाम का अस्त्र;—पंचक—(पुं.) वैद्यक के अनुसार सोना, चांदी, ताँबा, रौंदा और सीसा—ये पाँच धातुएँ;—पाश—(पुं.) लोहे की जंजीर;—प्रतिमा—(स्त्री.) लोहे की बनी हुई मूर्ति;—वान—(हिं. पुं.) देखें 'लोवान';—मय—(वि.) लोहे का बना हुआ;—मुक्तिका—(स्त्री.) लाल रंग का मोती;—मेखल—(वि.) जो लोहे की मेखला पहने हुए हो;—लंगर—(हिं. पुं.) जहाज का लंगर;—ल—(वि.) अस्पष्ट बोलता हुआ;—वत्—(वि.) लोहे के समान;—वर—(पुं.) सुवर्ण, सोना;—वर्म—(पुं.) लोहे का कवच;—शंकु—(पुं.) लोहे का बरछा;—श्लेषण—(पुं.) सोहागा;—सार—(पुं.) पक्का लोहा।
 लोहांगी—(हिं. स्त्री.) वह छड़ी जिसके छोर पर लोहा मड़ा होता है।
 लोहा—(हिं. पुं.) इस नाम की प्रसिद्ध धातु, अस्त्र, लोहे की बनी हुई वस्तु, लाल रंग का वैल; (वि.) लाल, बहुत कड़ा; (मुहा.)—गहना—युद्ध करने के लिए अस्त्र उठाना;—बजना—युद्ध होना; (किसी का)—मानना—किसी का आविपत्य स्वीकार करना, हार जाना;—लेना—युद्ध करना, लड़ना; लोहे के चने चवाना—बहुत कठिन कार्य करना।
 लोहाना—(हिं. क्रि. अ.) लोहे के पात्र में खाद्य पदार्थ रखने से उसका (लोहे का) रंग या स्वाद आ जाना।
 लोहार—(हिं. पुं.) एक जाति जो लोहे के उपकरण आदि बनाती है।
 लोहारी—(हिं. स्त्री.) लोहार का काम।

लोहिका—(सं. स्त्री.) लोहे का पात्र।
 लोहित—(सं. पुं.) कुंकुम, केशर, लाल चन्दन, पीतल, रुधिर, युद्ध, एक प्रकार की मछली, मसूर; (वि.) लाल रंग का;—क—(पुं.) कांस्य, कांसा; एक प्रकार का धान;—कलमाष—(वि.) चितकवरा;—कृष्ण—(वि.) गाढ़ा लाल;—क्षय—(पुं.) रुधिर का नाश;—ग्रीव—(पुं.) अग्नि;—चंदन—(पुं.) केसर;—स्व—(पुं.) लाल रंग;—पुष्पक—(पुं.) अनार का वृक्ष;—मृत्तिका—(स्त्री.) लाल मिट्टी, गैरिक, गेरू;—रंग—(पुं.) लाल रंग;—वासा—(वि.) जो लाल वस्त्र धारण किये हुए हो;—शतपत्र—(पुं.) लाल कमल;—शवल—(वि.) चितकवरा।
 लोहितांग—(सं. पुं.) मंगल ग्रह।
 लोहिता—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जो क्रोध से उग्र हो गई हो।
 लोहिताक्ष—(सं. पुं.) विष्णु, कोकिल, कोयल; (वि.) जिसकी आँखें लाल हों।
 लोहिताक्षी—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसकी आँखें लाल हों।
 लोहितानन—(सं. वि. पुं.) लाल मुखवाला, नेवला।
 लोहितायस—(सं. पुं.) ताँबा।
 लोहिताणं—(सं. पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 लोहितार्द्र—(सं. वि.) रुधिर से भीगा हुआ।
 लोहितस्य—(सं. वि.) लाल मुँहवाला, जिसके मुख में रुधिर लगा हुआ हो।
 लोहिताहि—(सं. पुं.) लाल रंग का सर्प।
 लोहितिका—(सं. स्त्री.) रक्तवाहिनी नाड़ी।
 लोहितोभूत—(सं. वि.) जो लाल हो गया हो।
 लोहितेक्षण—(सं. वि.) लाल आँखवाला।
 लोहितोत्पल—(सं. पुं.) लाल कमल।
 लोहितोद—(सं. पुं.) एक नरक का नाम।
 लोहितोर्ण—(सं. वि.) जिसका ऊन लाल रंग का हो।
 लोहित्य—(सं. पुं.) एक प्रकार का धान, ब्रह्मपुत्र नदी, एक समुद्र का नाम।
 लोहित्या—(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम।
 लोहितिका—(सं. स्त्री.) एक धमनी।
 लोहिया—(हिं. पुं.) लोहे का व्यापार करनेवाली मारवाड़ी वनियों की एक जाति, लाल रंग का वैल, लोहे की बनी हुई गोली।

लोह—(हिं. पुं.) रक्त, रुधिर।
 लौ—(हिं. अव्य.) पर्यन्त, तक, तुल्य, समान।
 लौकना—(हिं. क्रि. अ., स.) चमकना, दिखाई पड़ना।
 लौंग—(हिं. स्त्री.) एक वृक्ष की कली जो खिलने के पहले ही तोड़ ली जाती है, लौंग के आकार का एक गहना जिसको स्त्रियाँ नाक में पहनती हैं;—चिड़ा—(पुं.) एक प्रकार का कवाव;—मुश्क—(पुं.) एक प्रकार का फूल।
 लौंगिया मिचं—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की बहुत कड़वी मिचं।
 लौंडा—(हिं. पुं.) छोकरड़ा, बालक, सुन्दर लड़का; (वि.) अबोध, छिछोरा;—पन—(पुं.) लड़कपन, छिछोरपन।
 लौंडी—(हिं. स्त्री.) दासी।
 लौंडेवाज—(हिं. पुं.) वह जो सुन्दर बालक से प्रेम रखता और उसके साथ गुदा मैथुन करता हो।
 लौंद—(हिं. पुं.) अधिमास, मलमास।
 लौंदरा—(हिं. पुं.) वह पानी जो वर्षा ऋतु के आरंभ होने से पहले बरसता है, दौंगरा।
 लौंदा—(हिं. पुं.) लौंदा।
 लौंदी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की करछी।
 लौन—(हिं. पुं.) देखें 'लवन'।
 लौ—(हिं. स्त्री.) आग की लपट, ज्वाला दीपक की टेम, दीपशिखा, चित्त की वृत्ति, आशा, कामना;—लौन—(वि.) ध्यान में मग्न।
 लौआ—(हिं. पुं.) कद्दू, धिया।
 लौकना—(हिं. क्रि. अ.) दूर से दिखाई पड़ना।
 लौका—(हिं. पुं.) कद्दू।
 लौकिक—(सं. वि.) व्यावहारिक, सांसारिक, लोक-संबंधी, सात मात्राओं के एक छन्द का नाम;—ज्ञान—(पुं.) लोक-व्यवहार का ज्ञान;—ता—(स्त्री.) लोक-व्यवहार, शिष्टता;—त्व—(पुं.) देखें 'लौकिकता';—न्याय—(पुं.) साधारण नियम न्याय।
 लौकिकाचार—(सं. पुं.) लोकाचार, कुलाचार।
 लौकिकी—(सं. स्त्री.) ख्याति, प्रसिद्धि;—यात्रा—(स्त्री.) लोक-व्यवहार।
 लौकी—(हिं. स्त्री.) कद्दू, धिया, भ्रमके में लगाने की काठ या बाँस की नली।
 लौक्य—(सं. वि.) लोक-संबंधी, साधारण, सामान्य।
 लौज—(फा. पुं.) बादाम, एक प्रकार की बरफी जिसमें बादाम पीसकर पड़ता है।

लौजोरा-(हि. पुं.) घातु गलानेवाला कर्मकार ।
 लौट-(हि. स्त्री.) लौटने की क्रिया या भाव ।
 लौटना-(हि. क्रि. अ., स.) कहीं पर जाकर वहाँ से वापस आना, पलटना, पीछे की ओर मुड़ना, उलटना-पलटना ।
 लौटपौट-(हि. स्त्री.) उलटने-पलटने की क्रिया ।
 लौटफेर-(हि. पुं.) इवर-उवर हो जाना, उलटफेर, बड़ा परिवर्तन ।
 लौटान-(हि. स्त्री.) लौटने की क्रिया या भाव ।
 लौटाना-(हि. क्रि. स.) फरना, पलटाना, वापस करना, ऊपर-नीचे करना ।
 लौटानी-(हि. अव्य.) लौटते समय ।
 लौड़ा-(हि. पुं.) शिशन, लिंग, पुरुष की मूत्रेन्द्रिय ।
 लौन-(हि. पुं.) लवण, नमक ।
 लौनहार-(हि. पुं.) लवन करनेवाला, फसल काटनेवाला ।
 लौना-(हि. पुं.) वह रस्सी जिससे पशु के पिछले पैर बाँधे जाते हैं, खेत लवने का काम, ईंधन ।
 लौनी-(हि. स्त्री.) फसल की कटाई, लहना ।
 लौम-(सं. वि.) लोम-संबंधी ।
 लौरी-(हि. स्त्री.) वछिया ।
 लौल्य-(सं. पुं.) चंचलता, अस्थिरता ।
 लौल्यता-(सं. स्त्री.) चंचलता, अधिक या उक्तक इच्छा ।
 लौल्यवत्-(सं. वि.) इच्छुक, अर्थलोलुप ।
 लौह-(सं. पुं.) लोहा नामक धातु; -कांतक-(पुं.) कांत लोहा; -कार-(पुं.) लोहार; -किट्ट-(पुं.) मंडूर; -ज-(पुं.) लोहे का मल, मंडूर; -बंध-(पुं.) लोहे की सिकड़ी; -भांड-(पुं.) लोहे का पात्र; -मय-(वि.) लोहे का बना हुआ; -मल-(पुं.) मंडूर; -यंत्र-(पुं.) लोहे की कल; -सार-(पुं.) एक प्रकार का नमक जो लोहे से बनाया जाता है ।
 लौहा-(सं. स्त्री.) लोहे का बना हुआ कड़ाहा ।
 लौहित-(सं. पुं.) शिव का त्रिशूल ।
 लौहित्य-(सं. पुं.) एक सागर का नाम, लाल सागर, ब्रह्मपुत्र नदी ।
 लौहिय-(सं. पुं.) लोहे का बना हुआ हल ।
 ल्याना-(हि. क्रि. स.) देखें 'लाना' ।
 ल्यारी-(हि. पुं.) भेड़िया ।
 ल्यावन-(हि. क्रि. स.) देखें 'लाना' ।

ल्यौ-(हि. स्त्री.) ली, ध्यान ।
 ल्वारि-(हि. स्त्री.) लू, ग्रीष्म ऋतु की गरम हवा ।

व

व-हिंदी तथा संस्कृत वर्णमाला का उन-तीसवाँ व्यंजन वर्ण । यह वर्ण उकार का विकार तथा अन्तस्थ अर्ध-व्यञ्जन माना जाता है । इसका उच्चारण-स्थान दन्त्य-अथवा दन्त्यौष्ठ माना जाता है; (सं. पुं.) वायु, वरुण, बाहु, अस्त्र, समुद्र, बस्ती, वाण, अस्त्र, मद्य, वृक्ष, कलश से उत्पन्न ध्वनि; (वि.) बलवान्; (फा. अव्य.) और, भी ।
 वंक, वंकट-(हि. वि.) वक्र, टेढ़ा, कुटिल; (पुं.) नदी का मोड़ ।
 वंकनाली-(हि. स्त्री.) सुषुम्ना नामक नाली ।
 वंकिम-(हि. वि.) झुका हुआ, टेढ़ा ।
 वंक्षु-(सं. स्त्री.) मध्य एशिया की सब से बड़ी नदी का संस्कृत नाम जो अक्सस के नाम से प्रसिद्ध है ।
 वंग-(सं. पुं.) रांगा नामक धातु ।
 वंगज-(सं. पुं.) सिन्दूर, पीतल; (वि.) वंग देश में उत्पन्न ।
 वंगन-(सं. पुं.) वैगन ।
 वंगसेन-(सं. पुं.) लाल फूलोंवाला अगस्त्य ।
 वंगाली-(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 वंगीय-(सं. वि.) वंग देश का ।
 वंचक-(सं. वि. पुं.) चोर, ठग, धूर्त, सियार ।
 वंचन-(सं. पुं.) धोखा देना या खाना ।
 वंचना-(सं. स्त्री.) धोखा, छल ।
 वंचनीय-(सं. वि.) ठगने योग्य ।
 वंचित-(सं. वि.) धोखे में आया हुआ, विमुख ।
 वंदक-(सं. पुं.) स्तुति करनेवाला ।
 वंदन-(सं. पुं.) प्रणाम, स्तुति; -माला-(स्त्री.) तोरण, वंदनवार; -मालिका-(स्त्री.) वह माला जो सजावट के लिए घरों के द्वार, मण्डप आदि के चारों ओर बाँधी जाती है; -वार-(हि. स्त्री.) देखें 'वंदनमालिका' ।
 वंदना-(सं. स्त्री.) स्तुति, प्रणाम ।
 वंदनीय-(सं. वि.) वंदन करने योग्य ।
 वंदी-(सं. पुं.) स्तुति-पाठक, मागध, भाट, कैदी; -पाल-(पुं.) कारागृह का रक्षक ।

वंद्य-(सं. वि.) वंदना करने योग्य ।
 वंद्य-(सं. वि.) निष्फल, अनूत्पादक ।
 वंध्या-(सं. स्त्री.) वह स्त्री या गाय जिसे बच्चा न होता हो; -तनय-, पुत्र-, सुत-(पुं.) कोई साधारणतः न होनेवाली या असंभव बात ।
 वंश-(सं. पुं.) सन्तति, गोत्र, कुल, सन्तान, जाति, पीठ की रीढ़, वर्ग, वांसुरी, तलवार के बीच का भाग, जनसंख्या, अतिथि, हाथ या पैर की हड्डी, नाक के ऊपर की हड्डी, वंशलोचन, वांस; -क-(पुं.) छोटी किस्म का वांस; -कठिन-(पुं.) वांस का जंगल; -कर-(पुं.) वह पुरुष जिससे किसी वंश का आरंभ होता है; -कर्पूर-(पुं.) वंशलोचन; -कौत्सि-(स्त्री.) वंश का गौरव; -क्षय-(पुं.) वंश का नाश; -चरित्र-(पुं.) वंश का इतिहास; -चितक-(पुं.) वह जो अपने वंश का परिचय देने में समर्थ हो; -च्छेत्ता-(पुं.) बढई; (वि.) जिसके वंश का गौरव नष्ट हो गया हो; -ज-(वि.) जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो; (पुं.) अगार, पुत्र, वांस का चावल, वंशलोचन; -जा-(स्त्री.) कन्या, वंशलोचन; -तंडुल-(पुं.) वांस का चावल; -तिलक-(पुं.) एक छन्द का नाम; -दा-(स्त्री.) राजा पुरु की एक पत्नी का नाम; -धर-(वि.) वंश की मर्यादा रखनेवाला; (पुं.) सन्तति, सन्तान; -धान्य-(पुं.) वांस का चावल; -धारा-(स्त्री.) कुलपद्धति; -धारी-(वि.) वंश की रक्षा करनेवाला; -नर्तित्-(पुं.) भाँड़; -नालिका-(स्त्री.) वासुरी; -नाश-(पुं.) वंश का लोप; -नेत्र-(पुं.) गन्ध की पोर जिसमें गाड़ने पर अंकुर उत्पन्न होता है; -पत्र-(पुं.) एक छन्द का नाम; -पत्रक-(पुं.) हरताल; -पतित-(पुं.) एक छन्द का नाम; -पत्री-(स्त्री.) एक प्रकार की हींग; -परंपरा-(स्त्री.) सन्तति-क्रम; -पुष्पा-(स्त्री.) सहदेई लता; -पीत-(पुं.) गुग्गुलु; -पूरक-(पुं.) ईख की पोर; -बीज-(पुं.) वांस का चावल; -भूत्-(पुं.) वह जो वंश का पालन करता हो; -मय-(वि.) वांस का बना हुआ; -मर्यादा-(स्त्री.) वंश-परंपरा से प्राप्त गौरव; -यव-(पुं.) वांस का चावल; -राज-(पुं.) सब से बड़ा वांस; -लोचन-(पुं.)

वांस के पोले भाग में बननेवाला सफेद पदार्थ; -वर्धन-(वि.) कुल का गौरव बढ़ानेवाला; -वितति-(स्त्री.) वांस का जंगल; -विदल-(पुं.) वांस की बनी हुई चिमटी; -विस्तर-(पुं.) वंशपरंपरा; -वृद्धि-(स्त्री.) वंश की समृद्धि; -शकरा-(स्त्री.) वंश-लेखन; -शलाका-(स्त्री.) वीन, सितार आदि बाजों का डंडा; -स्थ-(पुं.) वारह वर्णों का एक वर्णवृत्त; -स्थिति-(स्त्री.) वंश की मर्यादा।

वंशागत-(सं. वि.) वंशपरंपरा से आया हुआ।
वंशहीन-(सं. वि.) निःसन्तान।
वंशाग्र-(सं. पुं.) वांस का कल्ला।
वंशानुक्रम-(सं. पुं.) वंशपरंपरा।
वंशावली-(सं. स्त्री) पूर्व-पुरुषों की नामावली।
वंशिका-(सं. स्त्री.) वंश, वांसुरी, पिप्पली।
वंशी-(सं. स्त्री.) मुरली, वांसुरी; -घर-(पुं.) वांसुरी बजानेवाला, श्रीकृष्ण; -वट-(पुं.) वृन्दावन में वह वरगद का वृक्ष जिसके नीचे श्रीकृष्ण वंशी बजाया करते थे।

वंशोद्भव-(सं. वि.) कुल में उत्पन्न।
वक-(सं. पुं.) वगला नामक पक्षी, एक दैत्य का नाम जिसको श्रीकृष्ण ने बाल्यावस्था में मारा था, अगस्त के वृक्ष का फूल, कुवेर; -त्व-(पुं.) कुटिलता; -पंचक-(पुं.) कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक की पांच तिथियाँ; -यंत्र-(पुं.) अर्क उतारने का ममका; -वृत्ति-(पुं.) अपना काम निकालने के लिये घात में रहना; -व्रत-(पुं.) कपटी मनुष्य।

वकालत-(फा. स्त्री.) वकील का पद, पेशा, शिक्षा आदि।

वकामुर-(सं. पुं.) एक दैत्य जो पूतना का भाई और कंस का अनुचर था।

वकील-(फा. पुं.) कचहरी में फरीकों की ओर से पैरवी करनेवाला शैक्षणिक योग्यता तथा विधिक मान्यताप्राप्त कार्यकर्ता।

वकुल-(सं. पुं.) अगस्त का वृक्ष या फूल, मौलसिरी।

वकुली-(सं. स्त्री.) मौलसिरी।

वक्त-(फा. पुं.) समय, काल, मीआद, अवसर।

वक्तव्य-(सं. वि.) वाच्य, कहने योग्य, कुत्सित; (पुं.) वचन, कथन, निन्दा; -ता-(स्त्री.) कथन, योग्यता।

वक्ता-(सं. वि.) बोलनेवाला, बोलने में निपुण, वाग्मी, बहुभाषी, पण्डित; (पुं.) भाषण देनेवाला, व्यास।

वक्तुकाम-(सं. वि.) बोलने का इच्छुक या अभिलाषी।

वक्तृक-(सं. पुं.) बोलनेवाला।

वक्तृता-(सं. स्त्री.) व्याख्यान, कथन।

वक्तृत्व-(सं. पुं.) व्याख्यान, कथन।

वक्त्र-(सं. पुं.) मुख, आनन, काम का आरंभ, दंत, दाँत, अनुष्टुप् के अनुरूप एक प्रकार का छन्द; -ज-(वि., पुं.) मुख से उत्पन्न, ब्राह्मण; -तुंड-(पुं.) गणेश; -दंष्ट्र-(पुं.) शकर, सूअर; -दल-(पुं.) तालू; -द्वार-(पुं.) मुख, विवर; -पट्ट-(पुं.) वह पात्र जिसमें धोड़ा चना खाता है, तोबड़ा; -वाहु-(पुं.) वाराही-कन्द; -भेदी-(वि.) तीता, चरपरा; -रंघ्र-(पुं.) देखें 'वक्त्रद्वार'; -रह-(वि.) मुख से उत्पन्न होनेवाला; -रोग-(पुं.) मुँह की बीमारी; -वासे-(पुं.) नारंगी; -शल्या-(स्त्री.) गुंजा, घुंघची; -शोषन-(पुं.) नीबू, कमरख।

वक्त्रासव-(सं. पुं.) लार, थूक।

वक्त्री-(सं. स्त्री.) स्त्री वक्ता।

वक्फ-(अ. पुं.) धर्मार्थ दान की हुई भूमि या संपत्ति।

वक्फनामा-(अं. पुं.) वक्फ-संबंधी लेख्य-पत्र या पट्टा।

वक्र-(सं. पुं.) नदी का मोड़, मंगल ग्रह, शनैश्चर, एक राक्षस जिसको भीम ने मारा था; (वि.) टेढ़ा, तिरछा, क्रूर, चालबाज; -कटक-(पुं.) वेर का पेड़; -गति-(स्त्री.) टेढ़ी चाल; -गामी-(वि.) कुटिल; -गुल्फ, -ग्रीव-(पुं.) ऊँट; -चंचु-(पुं.) सुग्गा, तोता; -ता-(स्त्री.) टेढ़ापन, क्रूरता; -तुंड-(पुं.) गणेश, वह जिसके ओठ टेढ़े हों; -दंष्ट्र-(पुं.) शूकर, सूअर; -दृष्टि-(स्त्री.) क्रोध की दृष्टि; -घर-(पुं.) शिव; -नाल-(पुं.) मुख से बजाया जानेवाला एक प्रकार का बाजा; -नास-(वि.) जिसकी नाक टेढ़ी हो; -नासिक-(पुं.) उल्लू पक्षी; -पाद-(वि.) लँगड़ा; -पुच्छ-(पुं.) कुत्ता; -पुष्प-(पुं.) पलाश का पेड़; -भाव-(पुं.) कुटिलता; -वक्त्र-(पुं.) शूकर, सूअर; -शृंग-(वि.) टेढ़े सींगोंवाला।

वक्रांग-(सं. पुं.) हंस, सर्प, टेढ़ा अंग; (वि.) जिसका अंग टेढ़ा हो।

वक्रित-(सं. वि.) जो टेढ़ा हो गया हो।

वक्त्री-(सं. पुं.) वह जिसके अंग जन्म से ही टेढ़े हों; (वि.) कुटिल, बूर्त, पीछे की ओर गमन करनेवाला; -कृत्-(वि.) टेढ़ा किया हुआ; -भाव-(पुं.) टेढ़ापन, कपट।

वक्त्रोक्ति-(सं. स्त्री.) कटुक्ति, व्यंग्य, 'वह' शब्दालंकार जिसमें श्लेष के प्रयोग रहते हैं।

वक्ष-(हिं. पुं.) वक्षःस्थल, हृदय, छाती, बैल।

वक्षःस्थल-(सं. पुं.) देखें 'वक्ष'।

वक्षोज, वक्षोर्ह-(सं. पुं.) स्तन, कुच।

वक्ष्यमाण-(सं. वि.) वाच्य, वक्तव्य, कहने योग्य।

वगलामुखी-(सं. स्त्री.) दस महाविद्याओं के अन्तर्गत एक देवी विशेष।

वगैरह-(अ. अव्य.) आदि, इत्यादि।

वच-(सं. पुं.) शुक, तोता, सूर्य, वचन।

वचन-(सं. पुं.) बोलने की क्रिया, बोले जानेवाले सार्थक शब्द, वाक्य, वाणी, भाषा, भाषित, उक्ति, व्याकरण में शब्द का वह विधान जिससे एक या अनेक का बोध होता है, (हिन्दी में शब्द एकवचन तथा बहुवचन होते हैं, परन्तु संस्कृत में द्विवचन का भी रूप होता है); -कर-(वि.) जो अपने वचन पर दृढ़ रहे;

-कारी-(वि.) आज्ञाकारी; -गोचर-(वि.) जो वचन द्वारा प्रत्यक्ष कहा हुआ।

हो; -ग्राही-(वि.) वचन के अनुसार काम करनेवाला; -पट्ट-(वि.) बोलने में प्रवीण; -लक्षिता-(स्त्री.) वह परकीया नायिका जिसकी बातचीत से उसके उपपति को उसका प्रेम प्रगट होता है; -विदग्धा-(स्त्री.) वह परकीया नायिका जो अपने वचन की चतुराई से अपने उपपति को वशीभूत करलेती है;

-विरुद्ध-(वि.) कशास्त्रविरुद्ध; -विरोध-(पुं.) शास्त्र-वाक्य जो प्रमाण के विरुद्ध हो; -सहाय-(पुं.) बातचीत करनेवाला साथी।

वचनानुग-(सं. वि.) वचन के अनुसार चलनेवाला।

वचनीय-(सं. वि.) कहने योग्य, निन्दनीय।

वचनीयता-(सं. स्त्री.) लोकापवाद।

वचनेस्थित-(सं. वि.) जो अपने वचन पर दृढ़ हो।

वचनोपक्रम-(सं. पुं.) वाक्यारंभ।

वचर-(सं. पुं.) कुक्कुट, मुरगा।

वचस्कर-(सं. वि.) वचन के अनुसार काम करनेवाला।

वचस्य—(सं. वि.) प्रख्यात ।
 वचा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की औषधि ।
 वच्छ—(हि. पुं.) देखें 'वक्ष, वत्स' ।
 वजन—(अ. पुं.) भार, बोझ, तौल, मान ।
 वजनी—(अ. वि.) मारी, महत्त्वयुक्त,
 तौला जानेवाला ।
 वजह—(अ. पुं.) कारण, सबब ।
 वजीफा—(अ. पुं.) वृत्ति, छात्रवृत्ति ।
 वजीर—(अ. पुं.) मंत्री, राजमंत्री, शतरंज
 की एक गोटी ।
 वजीरी—(अ. स्त्री.) मंत्री-पद ।
 वज्र—(सं. पुं.) इन्द्र का अस्त्र विशेष,
 हीरा, विजली, पक्का लोहा, वरछा,
 भाला, थूहर का पीघा, विष्णुके चरणोंका
 चिह्न, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम,
 ज्योतिष के सत्ताईस योगों में से पंद्रहवाँ
 योग; (वि.) बहुत कड़ा या पुष्ट,
 धोर, भयंकर; -कंकट—(पुं.) हनुमान्;
 -कंद—(पुं.) शकरकंद; -गोप—(पुं.)
 वीरवहूटी; -घोष—(पुं.) विजली की
 कड़क; -चर्मा—(पुं.) गैडा; -चंचु—
 (पुं.) गिद्ध; -जित्—(पुं.) गरुड़ का एक
 नाम; -ज्वलन—(पुं.) विद्युत्, विजली;
 -तुंड—(पुं.) गरुड़, गणेश; -दंड—
 (पुं.) एक अस्त्र जिसको इन्द्र ने अर्जुन
 को दिया था; -दंत—(पुं.) शूकर,
 चूहा; -इंती—(स्त्री.) एक प्रकार का
 पीघा; -दंष्ट्र—(पुं.) एक राक्षस का
 नाम; -देह—(पुं.) बलराम; -घर—
 (पुं.) इन्द्र; -नख—(पुं.) नृसिंह;
 -पाणि—(पुं.) इन्द्र; -मणि—(पुं.)
 हीरक, हीरा; -मय—(वि.) वज्र के
 समान अमंग्य; -मुष्टि—(पुं.) इन्द्र, एक
 राक्षस का नाम; -मूली—(स्त्री.) जंगली
 उड़द; -योगिनी—(स्त्री.) तन्त्रोक्त
 एक देवी का नाम; -रथ—(पुं.)
 क्षत्रिय; -रद—(पुं.) शूकर, सुअर;
 -रूप—(वि.) वज्र के समान बनावट
 का; -लेप—(पुं.) वह मसाला या पलस्तर
 जिसका लेप करने से मीत, मूर्ति आदि
 अमंग्य हो जाती है; -लौह—(पुं.)
 चुंबक; -वीर—(पुं.) महाकाल रुद्र का
 नाम; -वक्ष—(पुं.) थूहर; -सार—(पुं.)
 हीरा; -हस्त—(पुं.) शिव, इन्द्र ।
 वज्रांग—(सं. पुं.) सर्प; सर्प, हनुमान ।
 वज्रा—(सं. स्त्री.) थूहर, गुडुच, दुर्गा ।
 वज्राकर—(सं. पुं.) हीरे की खान ।
 वज्राघात—(सं. पुं.) आकस्मिक दुर्घटना ।
 वज्राभ—(सं. वि.) हीरे के समान चमक-
 वाला ।

वज्रायुध—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 वज्रासन—(सं. पुं.) हठ-योग का एक
 आसन ।
 वज्री—(सं. पुं.) वज्रवारी, इन्द्र; थूहर
 का पीघा ।
 वज्रोदरी—(सं. स्त्री.) एक राक्षसी का
 नाम ।
 वज्रौली—(सं. स्त्री.) हठ-योग की एक मुद्रा ।
 वट—(सं. पुं.) वरगद का पेड़ ।
 वटक—(सं. पुं.) बड़ा पकौड़ा, बड़ी टिकिया
 या गोली ।
 वटर—(सं. पुं.) मथानी, पगड़ी ।
 वटवासी—(सं. वि.) वरगद के वृक्ष पर
 रहनेवाला; (पुं.) यक्ष ।
 वटसावित्री—(सं. स्त्री.) एक व्रत जिसमें
 स्त्रियाँ वट का पूजन करती हैं ।
 वटिका, वटी—(सं. स्त्री.) छोटी गोली,
 टिकिया ।
 वटु—(सं. पुं.) ब्रह्मचारी, बालक ।
 वटुक—(सं. पुं.) बालक, ब्रह्मचारी, एक
 भैरव ।
 वडव—(सं. पुं.) घोटक, घोड़ा ।
 वडवा—(सं. स्त्री.) घोड़ी, अश्विनी
 नक्षत्र, वडवाग्नि, दासी ।
 वडवाग्नि—(सं. स्त्री.) वडवानल ।
 वडवानल—(सं. पुं.) समुद्र की अग्नि ।
 वडवामुख—(सं. पुं.) शिव का एक नाम ।
 वडवावक्त्रं—(सं. पुं.) वडवामुख ।
 वडवासुत—(सं. पुं.) अश्विनीकुमार ।
 वड़ा—(सं. स्त्री.) वटक, बड़ा ।
 वणिक्—(सं. पुं.) व्यवसायी, बनिया, वैश्य ।
 वणिग्वंधु—(सं. पुं.) नील का पीघा ।
 वणिग्वह—(सं. पुं.) उष्ट्र, ऊँट ।
 वणिज—(सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण
 का नाम ।
 वतंस—(हि. पुं.) देखें 'अवतंस', शिरोमूषण ।
 वतन—(अ. पुं.) देश, जन्मभूमि ।
 वतायन—(सं. पुं.) वातायन, झरोखा ।
 वत्—(सं. अव्य.) समान, तुल्य (समस्तपदों
 में प्रयुक्त ।)
 वत्स—(सं. पुं.) वच्चा, शिशु, बालक,
 गाय का वच्चा, बछड़ा, पुत्र (प्यार का
 संबोधन), वक्ष, छाती, वत्सासुर;
 -कामा—(स्त्री.) वह स्त्री जिसको पुत्र
 की कामना हो; -तंत्रो—(स्त्री.) बछवा
 वांघने की रस्सी; -नाभ—(पुं.) बछनाग
 विष; -पाल—(पुं.) वच्चा पालनेवाला,
 श्रीकृष्ण; -ल—(वि.) सन्तान के प्रति
 प्रेमपूर्ण, छोटे के प्रति स्नेहवान् या
 कृपालु; (पुं.) माता-पिता का अपनी

सन्तति के लिये प्रेम ।
 वत्सर—(सं. पुं.) वर्ष, साल, ध्रुव के एक
 पुत्र का नाम ।
 वत्सा—(सं. स्त्री.) बछिया ।
 वत्सादन—(सं. पुं.) वृक, मेड़िया ।
 वत्सादनी—(सं. स्त्री.) गुडुच, गिलोय ।
 वत्सासुर—(सं. पुं.) एक अमुर जो कंस का
 अनुचर था, जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था ।
 वदतोव्याघात—(सं. पुं.) कथन का वह
 दोष जब कोई बात कहकर फिर
 उसके विरुद्ध बात कही जाती है ।
 वदन—(सं. पुं.) मुख, अगला भाग, कथन,
 बात कहना ।
 वदनरोग—(सं. पुं.) मुख का रोग ।
 वदन्य—(सं. वि.) देखें 'वदान्य', उदार ।
 वदान्य—(सं. वि.) उदार, मधुर बोलने-
 वाला ।
 वदाम—(सं. पुं.) वादाम का फल ।
 वदि—(सं. अव्य.) कृष्ण पक्ष में ।
 वदितव्य, वद्य—(सं. वि.) कहने योग्य ।
 वद्य—(सं. पुं.) उत्पात, हत्या, मारण,
 हनन; -क—(वि.) हिंसक, बच करने-
 वाला, घातक; (पुं.) मृत्यु, मरण; -दंड—
 (पुं.) प्राण-दण्ड ।
 वधास्त्र—(सं. पुं.) इन्द्र का वज्र ।
 वधाह—(सं. वि.) बघ करने योग्य ।
 वधुका—(सं. स्त्री.) पुत्र की स्त्री, पतोह,
 दुलहिन ।
 वधुटी—(सं. स्त्री.) अविवाहिता कन्या ।
 वधू—(सं. स्त्री.) नारी, स्त्री, पुत्रवधू,
 पतोह, नवविवाहिता स्त्री, भार्या, पत्नी ।
 वधुटी—(सं. स्त्री.) पुत्रवधू, पतोह, दुल-
 हिन, भार्या ।
 वध्वस्त्र—(सं. पुं.) वह वस्त्र जो कन्या को
 विवाह के समय पहनाया जाता है ।
 वध्य—(सं. वि.) बघ करने योग्य;
 -ता—(स्त्री.) मारने का भाव ।
 वन—(सं. पुं.) जंगल, राशि, किरण,
 फूलों का गुच्छा, कुसुम, फूल, जल,
 पानी, आलय, घर, शंकराचार्य के
 शिष्यों की एक उपाधि; -कंद—(पुं.)
 जंगली सूरन; -कणिका—(स्त्री.)
 सलई का पेड़; -काम—(वि.) जंगल
 में रहनेवाला; -कुक्कुट—(पुं.)
 जंगली मुर्गा; -कुंजर—(पुं.) जंगली
 हाथी; -कोकिलक—(पुं.) एक छन्द
 जिसके प्रत्येक चरण में सोलह अक्षर
 होते हैं; -कोलि—(स्त्री.) जंगली
 बंदर; -क्रीड़ा—(स्त्री.) जंगल में क्रीड़ा
 या विहार; -न—(वि.) जंगल में

रहनेवाला; -गज-(पुं.) जंगली हाथी; -गव-(पुं.) जंगली गाय; -गहन-(पुं.) घना जंगल; -गुप्त-(पुं.) गुप्त-चर, भेदिया; -गुल्म-(पुं.) जंगली लता; -गोचर-(पुं.) व्याघ्र; -चर-(वि.) जंगल में घूमनेवाला; -ज-(वि.) जो वन में उत्पन्न हो; (पुं.) अंबुज, कमल; -जीवी-(पुं.) लकड़-हारा; -द-(पुं.) मेघ, बादल; -दमन-(पुं.) जंगली दौना; -दाह-(पुं.) जंगल की अग्नि; -दुर्गा-(स्त्री.) तन्त्रोक्त एक देवी की मूर्ति; -देव-(पुं.) वन का अधिष्ठाता देवता; -द्विप-(पुं.) जंगली हाथी; -धेनु-(स्त्री.) नीलगाय; -प-(पुं.) वनवासी, लकड़-हारा; -पन्नग-(पुं.) जंगली सर्प; -पामुल-(पुं.) व्याघ्र, शिकारी; -पादप-(पुं.) जंगली वृक्ष; -पार्व- (पुं.) जंगल के आसपास का स्थान; -पाल-(पुं.) जंगल का रक्षक; -प्रिय-(पुं.) कोकिल, कोयल; -वर्ही-(पुं.) जंगली मोर; -मल्लिका-(स्त्री.) सेवती का फूल; -मानुष-(पुं.) विना पूँछ का बड़ा वंदर जिसका आकार मनुष्य से बहुत मिलता-जुलता होता है; -माला-(स्त्री.) जंगली फूलों की माला, सब ऋतुओं में होनेवाले अनेक प्रकार के फूलों से बनी हुई माला जो श्रीकृष्ण को बहुत प्रिय है, एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में अठारह अक्षर होते हैं; -मालिका-(स्त्री.) चमेली का फूल; -माली-(पुं.) श्रीकृष्ण; -राज-(पुं.) सिंह; -राजी-(स्त्री.) वनसमूह; -रुह-(पुं.) पद्म, कमल; -लक्ष्मी-(स्त्री.) जंगल की शोभा; -वह्नि-(पुं.) दावानल; -वास-(पुं.) जंगल में निवास; -वासी-(वि.) बस्ती छोड़कर वन में रहनेवाला; -स्थ-(वि.) वनवासी; -स्थली-(स्त्री.) वनभूमि, जंगली प्रदेश; -हरि-(पुं.) सिंह; -हास-(पुं.) कुन्द का फूल; -हुताशन-(पुं.) वनाग्नि, दावानल।

वनस्पति-(सं.पुं.) वह वृक्ष जिसमें फूल न हों केवल पत्ते ही हों, लता, वृक्ष आदि, पेड़-पौधे; -विज्ञान, -शास्त्र-(पुं.) वह शास्त्र जिसमें पेड़-पौधों आदि के विषय में सांगोपांग विवेचन होता है।

वनाडु-(सं.पुं.) शशक, खरहा।

वनानि-(सं.स्त्री.) वन में स्वतः लगने-वाली आग, दावानल।

वनाटन-(सं.पुं.) जंगल में घूमना।

वनालकत-(सं.पुं.) गैरिक, गेरू।

वनालय-(सं.पुं.) जंगल में रहने का घर।

वनाश्रमी-(सं.वि.) वानप्रस्थ आश्रमा-वलम्बी।

वनाश्रित-(सं.वि.) जिसने वानप्रस्थ आश्रम धारण किया हो।

वनित-(सं.वि.) याचित, मांगा हुआ।

वनिता-(सं.स्त्री.) प्रियतमा, अनुरक्त स्त्री, औरत, छः वर्णों का एक वृत्त जिसको तिलका या डिल्ला भी कहते हैं; -द्विष्-(पुं.) स्त्रियों से ईर्ष्या करनेवाला मनुष्य; -भोजी-(स्त्री.) नागकन्या; -मुख-(पुं.) स्त्री का मुखमण्डल; -बिलास-(पुं.) स्त्री-संभोग की इच्छा।

वनिन, वनी-(सं.वि.) वनवासी, जंगल में रहनेवाला।

वनी-(सं.स्त्री.) वनस्थली, छोटा वन।

वनीयक-(सं.पुं.) मिश्रक, मांगनेवाला।

वनेचर-(सं.वि.) वन में रहनेवाला।

वनोद्देश-(सं.पुं.) वन के बीच का स्थान।

वनोद्भव-(सं.वि.) वन में उत्पन्न।

वनोद्भवा-(सं.स्त्री.) जंगली कपास।

वनौकस्-(सं.पुं.) वंदर, तपस्वी।

वनौघ-(सं.पुं.) वनसमूह।

वनौषधि-(सं.स्त्री.) जंगली जड़ी-बूटी।

वन्य-(सं.वि.) जंगल में उत्पन्न होने-वाला, जंगली; -दमन-(पुं.) जंगली दौने का पौधा; -द्विप-(पुं.) जंगली हाथी; -धान्य-(पुं.) तिन्नी का चावल; -पक्षी-(पुं.) जंगली चिड़िया; -वृक्ष-(पुं.) पीपल का पेड़।

वन्याशन-(सं.वि.) जंगली फल खानेवाला।

वन्याश्रमी-(सं.वि.) देखें 'वनाश्रमी'।

वपन-(सं.पुं.) सिर मूँडना, वीज़ बौना।

वपनी-(सं.स्त्री.) वह स्थान जहाँ जुलाहे कपड़ा बुनते हैं।

वपनीय-(सं.वि.) बौने योग्य।

वपा-(सं.स्त्री.) छिद्र, छेद, बसा, बाँधी।

वपु-(सं.पुं.) शरीर, देह।

वपुमान-(हिं.वि.) शरीरबारी।

वपुष्टमा-(सं.स्त्री.) काशीराज की कन्या जिसका विवाह परीक्षित के पुत्र जनमे-जय से हुआ था।

वपोदर-(सं.वि.) तोंदवाला।

वप्तव्य-(सं.वि.) वपनीय, बौने योग्य।

वप्ता-(सं.वि.) वीज बौनेवाला।

वफा-(फा.पुं.) सच्चाई, कृतज्ञता, नेक-नीयती; -दार-(पुं.) सच्चाई से काम करनेवाला।

वव-(सं.पुं.) ज्योतिष में ग्यारह करणों के अन्तर्गत प्रथम करण।

वभु-(सं.पुं.) एक यदुवंशीय योद्धा का नाम।

वम, वमन-(सं.पुं.) उलटी, कै।

वमनी-(सं.स्त्री.) जलीका, जोंक।

वमि-(सं.स्त्री.) वमन का रोग।

वमित-(सं.वि.) जिसको वमन कराया गया हो।

वयःक्रम-(सं.पुं.) आयुष्य, उम्र।

वयःसंधि-(सं.स्त्री.) वाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का काल।

वयःसम-(सं.वि.) समान वय का।

वय-(सं.पुं.) तन्तुवाय, जुलाहा, उम्र, अवस्था, आयु।

वयन-(सं.पुं.) बुनने की क्रिया या भाव।

वयस्क-(सं.वि.) अवस्थावाला, युवा-वस्था को पहुँचा हुआ, वालिग।

वयस्य-(सं.पुं.) समान वय का, हमजोली, मित्र; -क-(पुं.) मित्र, बन्धु; -त्व-(पुं.) मित्रता, बन्धुत्व, वयस्य का भाव या धर्म; -भाव-(पुं.) बन्धुता, मैत्री।

वयस्या-(सं.स्त्री.) सखी।

वयोगत-(सं.पुं.) बुढ़ापा; (वि.) वृद्ध।

वयोधा-(सं.स्त्री.) शक्ति, युवा, अन्न-दाता।

वयोवस्था-(सं.स्त्री.) जीवनकाल।

वयोवृद्ध-(सं.वि.) जो वय या उम्र में बड़ा हो।

वरंच-(सं.अव्य.) परन्तु, बल्कि।

वरंड-(सं.पुं.) ओसारा, मुँहासा, घास का गट्ठर।

वरंडक-(सं.पुं.) हाथी की पीठ पर कसने का हौदा।

वरंडा-(हिं.पुं.) देखें 'वरामदा'।

वर-(सं.पुं.) कुंकुम, केसर, बालक, पति, जामाता, दूल्हा, किसी देवी-देवतासे मांगा हुआ मनोरथ या उसका फल या सिद्धि; (वि.) श्रेष्ठ (समस्तपदों के अंत में)।

वरकंदा-(सं.स्त्री.) खिरनी का वृक्ष।

वरक-(अ.पुं.) पुस्तक के पन्ने, धातु का महीन पत्तर।

वरज-(सं.वि.) ज्येष्ठ, बड़ा।

वरट-(सं.पुं.) हंस, भिड़, वरें।

वरण-(सं.पुं.) चुनना, किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को चुनना, मंगल-कार्य के विधान में होता आदि कार्यकर्ताओं को नियुक्त करके उनका सत्कार करना, विवाह में कन्या द्वारा वर को अंगीकार करने की क्रिया, पूजा, अर्चना, सत्कार।

वरणक—(सं. वि.) वरण करनेवाला ।
 वरणमाला—(सं. स्त्री.) विवाह के समय पहनाने की माला ।
 वरणी—(सं. स्त्री.) विवाहादि में पुरोहित तथा ब्राह्मणों को मिलनेवाली दक्षिणा ।
 वरणीय—(सं. वि.) चुनने योग्य, श्रेष्ठ, बड़ा ।
 वरतनु—(सं. स्त्री.) सुन्दर स्त्री; (पुं.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में बारह अक्षर होते हैं ।
 वरद—(सं. वि.) वर देनेवाला, प्रसन्न ।
 वरदक्षिणा—(सं. स्त्री.) वह धन जो विवाह के समय वर को कन्या के पिता से मिलता है, दहेज ।
 वरदा—(सं. स्त्री.) कन्या; (वि. स्त्री.) वर देनेवाली; -चतुर्थी—(स्त्री.) माघ शुक्ला चतुर्थी ।
 वरदाता—(सं. पुं.) वर देनेवाला, अमीष्ट देनेवाला ।
 वरदान—(सं. पुं.) किसी देवता आदि का प्रसन्न होकर भक्त को मांगी हुई वस्तु देना, इच्छित फल की प्राप्ति ।
 वरदानिक—(सं. वि.) वरदान-संबंधी ।
 वरदानी—(सं. पुं.) वरदान देनेवाला ।
 वरदी—(फा. स्त्री.) राज कर्मचारियों (सैनिक, सिपाही आदि) का काम के समय का विशिष्ट पहनावा ।
 वरधर्म—(सं. पुं.) श्रेष्ठ कर्म, बड़ा काम ।
 वरन्—(हि. अव्य.) ऐसा न हो कि ।
 वरना—(फा. अव्य.) नहीं तो ।
 वरनिश्चय—(सं. पुं.) पति चुनना ।
 वरपक्ष—(सं. पुं.) वरयात्रा, वारात ।
 वरपक्षीय—(सं. वि.) वरपक्ष-संबंधी ।
 वरपीत—(सं. पुं.) हरताल ।
 वरप्रद—(सं. वि.) वर देनेवाला ।
 वरप्रदान—(सं. पुं.) मनोरथ सिद्ध करना, वर देना ।
 वरप्रभ—(सं. वि.) बहुत चमकता हुआ ।
 वरप्रस्थान—(सं. पुं.) वरयात्रा, वारात ।
 वरफल—(सं. पुं.) श्रेष्ठ फल, नारियल ।
 वरयात्रा—(सं. स्त्री.) विवाह करने के लिए वर का वारात आदि के साथ कन्या के घर जाना, वारात ।
 वरयोग्य—(सं. वि.) आशीर्वाद देने योग्य, उपहार पाने योग्य, विवाह के योग्य ।
 वररुचि—(सं. पुं.) एक प्राचीन वैयाकरण और प्रसिद्ध कवि ।
 वरवत्सला—(सं. स्त्री.) सास ।
 वरवर्ण—(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना, श्रेष्ठ वर्ण, बढ़िया रंग ।
 वरवर्णिनी—(सं. स्त्री.) उत्तम स्त्री, लाक्षा,

लाख, हल्दी, गौरी, लक्ष्मी ।
 वरवारण—(सं. पुं.) सुन्दर हाथी ।
 वरसुंदरी—(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में चौदह अक्षर होते हैं ।
 वरही—(हि. स्त्री.) सोने की एक लंबी पट्टी जो विवाह के समय वधू को पहिनाई जाती है ।
 वरांगना—(सं. स्त्री.) सुन्दर स्त्री ।
 वरा—(सं. स्त्री.) पार्वती, हरिद्रा, हल्दी, मद्य; (वि. स्त्री.) वरण करनेवाली; (समस्त पदों के अंत में प्रयुक्त) ।
 वराक—(सं. वि.) शोचनीय, नीच ।
 वराट—(सं. पुं.) कपर्दक, कौड़ी, रस्सी, पद्मबीज ।
 वराटिका—(सं. स्त्री.) कपर्दक, कौड़ी, तुच्छ वस्तु ।
 वराड़ी—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 वरानना—(सं. स्त्री.) सुन्दर स्त्री ।
 वरान्न—(सं. पुं.) करमर्द, करौंदा ।
 वरारक—(सं. पुं.) हीरक, हीरा ।
 वरारोह—(सं. पुं.) विष्णु ।
 वरासन—(सं. पुं.) श्रेष्ठ आसन, सिंहासन ।
 वरासी—(सं. स्त्री.) मैला वस्त्र ।
 वराह—(सं. पुं.) विष्णु, एक पर्वत का नाम, शिशुमार, सुंस, अठारह द्वीपों में से एक; -कंद—(पुं.) वाराही कन्द; -रुण—(पुं.) एक वाण का नाम; -रुणी—(स्त्री.) अस-गन्ध; -काली—(स्त्री.) हुरहुर का पौधा; -क्रांता—(स्त्री.) लज्जालु, शूकरी; -मिहिर—(पुं.) ज्योतिष के एक प्रसिद्ध आचार्य, ऐसा विश्वास है कि यह राजा विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से एक थे; -व्यूह—(पुं.) प्राचीन काल की एक प्रकार की सेना की रचना; -शृंग—(पुं.) शिव, महादेव ।
 वराहिका—(सं. स्त्री.) कंबाच ।
 वराही—(सं. स्त्री.) वाराही कन्द, शूकरी ।
 वरिशी—(सं. स्त्री.) कंटिया ।
 वरिख—(सं. पुं.) वत्सर, वर्ष ।
 वरिषा—(सं. स्त्री.) वर्षा; -प्रिय—(पुं.) चातक पक्षी ।
 वरिष्ठ—(सं. वि.) श्रेष्ठ, उत्तम, विस्तीर्ण ।
 वरीवरा—(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर होते हैं ।
 वरीषु—(सं. पुं.) कन्दर्प, कामदेव ।
 वरुण—(सं. पुं.) एक देवता जो कश्यप के पुत्र थे, (यह अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और देवताओं के रक्षक तथा जल के अधिपति माने जाते हैं), जल, पानी, सूर्य, एक ग्रह का नाम; -ग्रस्त—(वि.)

जल में डूबा हुआ; -ग्रह—(पुं.) घोड़ों का एक रोग; -देव—(पुं.) शतभिषा नक्षत्र; -पाश—(पुं.) वरुण का अस्त्र, पाश, फंदा; -मंडल—(पुं.) नक्षत्रों का मण्डल जिसमें रेवती, पूर्वाषाढा, आर्द्रा, अश्लेषा, मूल, उत्तरा भाद्रपद और शतभिषा हैं ।
 वरुणात्मजा—(सं. स्त्री.) वारुणी, मदिरा ।
 वरुणानी—(सं. स्त्री.) वरुण की पत्नी ।
 वरुणालय, वरुणावास—(सं. पुं.) समुद्र ।
 वरुणेश—(सं. पुं.) शतभिषा नक्षत्र ।
 वरुणोद—(सं. पुं.) सागर, समुद्र ।
 वरुध्य—(सं. पुं.) तनुवाण, कवच, वर्म, ढाल, सेना ।
 वरुथाधिप, वरुथाधिपति—(सं. पुं.) सेनापति ।
 वरुथिनी—(सं. स्त्री.) सेना ।
 वरुद्र—(सं. पुं.) इन्द्र, राजा ।
 वरुण्य—(सं. पुं.) शिव, महादेव; (वि.) मुख्य, प्रधान, पूजनीय ।
 वरुण्य—(सं. पुं.) सूर्य ।
 वरुण्यु—(सं. वि.) विवाह के लिये कन्या मांगनेवाला ।
 वरुणेश—(सं. पुं.) सर्वेश्वर, भगवान् ।
 वरुणेश्वर—(सं. पुं.) शिव ।
 वरुणोद—(सं. पुं.) मरुआ नामक पौधा ।
 वरुणु—(सं. वि. स्त्री.) सुन्दर जाँघोंवाली (स्त्री.) ।
 वरुणशाखी—(सं. पुं.) पाकर का वृक्ष ।
 वरुणद—(सं. पुं.) कौल, कांटा, अर्गला ।
 वरुणर—(सं. पुं.) भेड़ का बच्चा, भेमना ।
 वरुणरुद—(सं. पुं.) कटाक्ष, दोपहर की गरमी ।
 वर्ग—(सं. पुं.) एक तरह के अनेक पदार्थों का समूह, समान धर्मवाले पदार्थों का समूह, व्याकरण में एक ही स्थान से उच्चारण होनेवाले व्यञ्जन वर्णों का समूह, प्रकरण, अव्याय, परिच्छेद, जाति, श्रेणी, दो समान अंकों या राशियों का गुणनफल, रेखागणित में वह चतुर्भुज जिसकी लंबाई-चौड़ाई बराबर हो तथा जिसके चारों कोण समकोण हों; -घन—(पुं.) किसी राशि का घनफल; -ण—(पुं.) गुणन; -पद—(पुं.) वर्गमूल; -फल—(पुं.) वह अंक जो दो समान राशियों को गुणा करने से प्राप्त हो; -मूल—(पुं.) किसी वर्गफल के दो बराबर गुणन-लंब; -वर्ग—(पुं.) वर्ग का वर्गफल ।
 वर्गीय—(सं. वि.) वर्ग-संबंधी ।
 वरुणु—(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
 वर्चस्—(सं. पुं.) तेज, अन्न ।

वर्चस्क—(सं. पुं.) दीप्ति, तेज ।
 वर्चस्वी—(सं. पुं.) चन्द्रमा; (वि.) दीप्तियुक्त ।
 वजक—(सं. वि.) वर्जन करनेवाला ।
 वर्जन—(सं. पुं.) त्याग, छोड़ना, वारण, मनाही ।
 वर्जनीय—(सं. वि.) त्याज्य, छोड़ने योग्य, निषिद्ध, मना किया हुआ ।
 वर्जित—(सं. वि.) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ ।
 वर्ज्य—(सं. वि.) छोड़ने योग्य ।
 वर्ण—(सं. पुं.) जाति, (यथा—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र); पदार्थों का लाल, काला, पीला आदि रंग, प्रकार, यश, कीर्ति, गुण, स्तुति, चित्र, तलवार, रूप, अक्षर, व्याकरण के अनुसार अकारादि स्वरों के चिह्न या संकेत; -कंट—(पुं.) तुल्य, तूतिया; -कदंबक—(पुं.) चित्रकार की कूची, एक प्रकार का छन्द; -क्रम—(पुं.) रंगों का विन्यास, अक्षरों की श्रेणी; -खडमेरु—(पुं.) छन्दःशास्त्र की वह क्रिया जिससे यह जाना जाता है कि कितने वर्णों से कितने वृत्त हो सकते हैं और प्रत्येक वृत्त में कितने गुरु और कितने लघु वर्ण होते हैं; -गत—(वि.) वर्ण-संबंधी; -चारक—(पुं.) चित्रकार; -ज—(वि.) वर्ण या जाति में उत्पन्न; -ज्येष्ठ—(पुं.) ब्राह्मण; -तूलि—(स्त्री.) चित्रकार की कूची; -द—(वि.) रंग देनेवाला; -दाता—(वि.) वर्णद; -दात्री—(स्त्री.) हरिद्रा, हल्दी; -दूषक—(वि.) जाति को नष्ट करनेवाला; -धर्म—(पुं.) वर्णाश्रम धर्म; -नष्ट—(पुं.) पिंगल-शास्त्र के अनुसार वह क्रिया जिससे यह जाना जाता है कि वर्णों की मात्राओं के अनुसार वृत्तों के विविध भेदों का रूप लघु-गुरु वर्ण के विचार से कैसा होगा; -पताका—(स्त्री.) पिंगल-शास्त्र की वह क्रिया जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि वर्णवृत्तों के विविध भेदों में कितने गुरु तथा कितने लघु वर्ण होते हैं; -पाताल—(पुं.) पिंगल-शास्त्र की वह क्रिया जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि विविध-संख्यक वर्णों से कुल कितने वृत्त हो सकते हैं और उनमें कितने लघ्वादि तथा कितने लघ्वन्त, कितने गुर्वादि तथा कितने गुर्वन्त, कितने सर्व-गुरु एवं कितने सर्वलघु होंगे; -पात्र—(पुं.) चित्रकार का रंग रखने का पात्र;

-प्रत्यय—(पुं.) पिंगल-शास्त्र की वह क्रिया जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि मात्राओं की संख्यानुसार वर्णवृत्तों में कितने भेद हो सकते हैं, उनके स्वरूप क्या होंगे आदि; -प्रस्तार—(पुं.) पिंगल-शास्त्र की वह क्रिया जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि विभिन्न मात्रिक वृत्तों के कितने भेद हो सकते हैं और उन भेदों के स्वरूप किस प्रकार होंगे; -भेद—(पुं.) रंग का भेद; -मात्रिका—(स्त्री.) सरस्वती; -माला—(स्त्री.) वर्ण, श्रेणी, किसी भाषा के क्रम से अक्षरों का समूह; -राशि—(स्त्री.) वर्णसमूह; -रेखा—(स्त्री.) खडिया; -लिपि—(स्त्री.) अक्षर, वर्ण, लेखनप्रणाली; -वती—(स्त्री.) हरिद्रा, हल्दी; -वति—(स्त्री.) लेखनी, तूली; -वादी—(वि.) प्रशंसा करनेवाला; -विकार—(पुं.) निरुक्त के अनुसार शब्दों में एक वर्ण का विगड़कर दूसरा वर्ण हो जाना; -विचार—(पुं.) व्याकरण का वह विभाग जिसमें वर्णों के आकार, उच्चारण, सन्धि आदि के नियमों का वर्णन रहता है, प्राचीन वेदांग में यह विषय 'शिक्षा' के अंतर्गत था और व्याकरण से स्वतन्त्र माना जाता था; -विपर्यय—(पुं.) निरुक्त के अनुसार शब्दों के वर्णों का उलट-फेर होना; -विलोडक—(पुं.) वह जो दूसरे के लिखे हुए लेख को अपना बतलाता हो; -वृत्त—(पुं.) वह पद्य जिसके चरणों में वर्णों की संख्या तथा लघु-गुरु मात्राओं के क्रमों में समानता हो; -श्रेष्ठ—(पुं.) चारों वर्णों में श्रेष्ठ, ब्राह्मण; -संकर—(पुं.) ब्राह्मणादि वर्णों के अनुलोम या प्रतिलोम से उत्पन्न जाति, व्यभिचार से उत्पन्न संतान, दोगला; -संघात—(पुं.) वर्ण-समूह; -संयोग—(पुं.) सवर्ण विवाह; -संसर्ग—(पुं.) अंतर्जातीय विवाह; -सूची—(स्त्री.) छन्दःशास्त्र की वह क्रिया जिसके द्वारा वर्णवृत्तों की संख्या, उनकी शुद्धता तथा उनके भेदों में आदि, अन्त, लघु और आदि, अन्त, गुरु की संख्या जानी जाती है; -स्थान—(पुं.) वर्ण आदि का उच्चारण-स्थान ।
 वर्णन—(सं. पुं.) गुणकीर्तन, चित्रण, रंगना, विस्तारसहित किसी बात को कहना ।
 वर्णदा—(सं. स्त्री.) गुणकथन, स्तुति, प्रशंसा ।

वर्णनीय—(सं. वि.) वर्णन करने योग्य ।
 वर्णा—(सं. स्त्री.) आढकी, अरहर ।
 वर्णाका—(सं. स्त्री.) लेखनी ।
 वर्णाट—(सं. पुं.) चित्रकार, गवैया ।
 वर्णाश्रम—(सं. पुं.) चारों वर्णों का आश्रम; -धर्म—(पुं.) ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णों का आश्रम-धर्म जिसमें रहकर वे कर्म द्वारा ऐहिक और पारलौकिक कल्याण प्राप्त करते हैं ।
 वर्णिक—(सं. पुं.) लेखक ।
 वर्णिक वृत्त—(सं. पुं.) वह छन्द जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या तथा गुरु-लघु मात्राओं के स्थान या क्रम समान हों, वर्ण-वृत्त ।
 वर्णित—(सं. वि.) वर्णन किया हुआ, कहा हुआ, प्रशंसित ।
 वर्णी—(सं. पुं.) लेखक, चित्रकार, ब्रह्म-चारी, ब्राह्मण ।
 वर्ण्य—(सं. वि.) वर्णन करने योग्य; (पुं.) प्रस्तुत विषय ।
 वर्तक—(सं. पुं.) बटुआ, नर बटेर ।
 वर्तका—(सं. स्त्री.) वर्तक पक्षी, मादा बटेर ।
 वर्तन—(सं. पुं.) व्यवसाय, जीवनवृत्ति, परिवर्तन, उलट-फेर, स्थिति, ठहराव, स्थापन, रखना, व्यवहार, बरताव, पात्र, सिल-बट्टे पर पीसना ।
 वर्तनि—(सं. स्त्री.) शुद्ध राग का एक भेद ।
 वर्तनी—(सं. स्त्री.) बटने की क्रिया, पिसाई ।
 वर्तमान—(सं. पुं.) व्याकरण में क्रिया का वह रूप जिससे यह सूचित होता है कि क्रिया अभी होती है या हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, वृत्तान्त, समाचार, चलता व्यवहार; (वि.) जो चल रहा हो, आवृत्तिक, विद्यमान, उपस्थित, साक्षात्; -ता—(स्त्री.) आवृत्तिकता, उपस्थिति ।
 वर्ति—(सं. स्त्री.) दीपशिखा, बत्ती, अंजन, उबटन, गोली, दीप, दीया, बटी ।
 वर्तिक—(सं. पुं.) बटेर पक्षी ।
 वर्तिका—(सं. स्त्री.) मादा बटेर, बत्ती, शलाका, सलाई ।
 वर्तित—(सं. वि.) सम्पादित, चलाया हुआ, किया हुआ; जारी किया हुआ, प्रस्तुत, ठीक किया हुआ ।
 वर्तितव्य—(सं. वि.) स्थिति के योग्य ।
 वर्ती—(सं. वि.) बरतने योग्य, स्थिर रहनेवाला ।
 वर्तुल—(सं. वि.) वृत्ताकार, गोल; (पुं.) मटर, गाजर, सोहागा ।
 वर्त्म—(सं. पुं.) मार्ग, पथ, गाड़ी के पहिये

की लकीर, आधार, आँख की पलक, किनारा, बारी ।
 वर्दी—(हि. स्त्री.) देखें 'वरदी' ।
 वद्ध (ध)क—(सं. वि.) पूरक, बढ़ाने-वाला, काटनेवाला ।
 वद्ध (ध)कि (की)—(सं. पुं.) त्वष्टा, रथकार, बढई ।
 वद्ध (ध)न—(सं. वि.) बढ़ानेवाला; (पुं.) वृद्धि, उन्नति, बढ़ाना, छीलना, पूत ।
 वद्ध (ध)नी—(सं. स्त्री.) सम्मार्जनी, झाड़, कमण्डलु ।
 वद्ध (ध)नोय—(सं. वि.) बढ़ाने योग्य ।
 वर्द्धा (धा)पक—(सं. वि.) कर्णवेध की क्रिया करनेवाला ।
 वर्द्धा (धा)पन—(सं. पुं.) कर्णवेध, कनछेदन ।
 वर्द्ध (ध)मान—(सं. वि.) बढ़नेवाला, बढ़ता हुआ; (पुं.) विष्णु, रेंड़ का पेड़, एक वर्णवृत्त का नाम ।
 वर्द्धि (धि)त—(सं. वि.) बुद्धिप्राप्त, बढ़ा हुआ, पूर्ण, प्रसूत ।
 वर्द्धि (धि)ष्णु—(सं. वि.) बढ़नेवाला ।
 वर्द्धी (धी)—(सं. स्त्री.) चमड़े की रस्सी, बद्धी नामक आमूषण ।
 वर्ध्म—(सं. पुं.) अति उतरने का रोग ।
 वर्म—(सं. पुं.) तनुत्राण, कवच; -कंटक—(पुं.) पित्तपापड़ा; -घर—(वि.) कवच पहने हुए; -हर—(वि.) कवचधारी ।
 वर्मा—(सं. पुं.) क्षत्रियों या कायस्थों की उपाधि ।
 वर्मिक, वर्मित—(सं. वि.) कवचधारी ।
 वर्य—(सं. वि.) प्रधान, श्रेष्ठ ।
 वर्या—(सं. स्त्री.) कन्या ।
 वर्वर—(सं. पुं.) पीत चन्दन, बोल, घुंघराले बाल, एक देश का नाम, नीच या शुद्र जाति, असम्य व्यक्ति; (वि.) दुष्ट, नीच; -ता—(स्त्री.) असम्भावस्था ।
 वर्वरा—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की मक्खी ।
 वर्थ—(सं. पुं.) पृथ्वी के विभिन्न देश या प्रधान भाग, वृष्टि, वर्षा, मेघ, बादल, संवत्सर, बारह महीने का काल; -कर—(पुं.) मेघ, बादल; -करी—(स्त्री.) झींगुर; -काम—(पुं.) वृष्टि की कामना करनेवाला; -कामेष्टि—(पुं.) वर्षा होने के लिये किया जानेवाला यज्ञ; -काली—(स्त्री.) जीरक, जीरा; -केतु—(पुं.) लाल पुनर्नवा; -कोष—(पुं.) दैवज्ञ, ज्योतिषी; -गाँठ—(हि. पुं.) जन्म-दिन का उत्सव; -घन—(पुं.) पवन; -ज-

(वि.) वृष्टि से उत्पन्न; -ण—(पुं.) वृष्टि, पानी बरसना; -घर—(पुं.) मेघ, बादल; -पति—(पुं.) संवत्सर का अधिपति; -प्रिय—(पुं.) चातक पक्षी, पपीहा; -फल—(पुं.) फलित ज्योतिष में जातक के अनुसार वह कुण्डली जिसमें वर्ष भर के ग्रहों के शुभाशुभ फलों का विवरण रहता है; -वृद्ध—(वि.) जो वय में बड़ा हो; -वृद्धि—(स्त्री.) वय की वृद्धि; -शत—(पुं.) सौ वर्ष; -सहस्र—(वि.) हजार वर्ष ।
 वर्षाग—(सं. पुं.) मास, महीना ।
 वर्षा—(सं. स्त्री.) पानी बरसने की ऋतु, पानी बरसने की क्रिया; (मुहा.) -होना—किसी वस्तु का अधिक परिमाण में प्राप्त होना ।
 वर्षाकाल—(सं. पुं.) बरसात ।
 वर्षाकालीन—(सं. वि.) बरसाती ।
 वर्षागम—(सं. पुं.) वर्षा ऋतु का आगमन ।
 वर्षाचर—(सं. वि.) वर्षा में घूमनेवाला ।
 वर्षाघत—(सं. वि.) वर्षा काल में प्राप्त ।
 वर्षाप्रिय—(सं. पुं.) पपीहा ।
 वर्षाबीज—(सं. पुं.) मेघ, बादल ।
 वर्षाभव—(सं. वि.) वर्षा में उत्पन्न ।
 वर्षाभू—(सं. पुं.) इन्द्रगोप नामक कीड़ा; (वि.) वर्षा में उत्पन्न होनेवाला ।
 वर्षामद—(सं. पुं.) मयूर, मोर ।
 वर्षायस—(सं. वि.) अति वृद्ध ।
 वर्षारात्र—(सं. पुं.) वर्षाकाल की रात ।
 वर्षाचि—(सं. पुं.) मंगल ग्रह ।
 वर्षाल—(सं. पुं.) फलितग ।
 वर्षावत्—(सं. वि.) वर्षा के समान ।
 वर्षावसान—(सं. पुं.) शरद ऋतु ।
 वर्षासमय—(सं. पुं.) वर्षाकाल ।
 वर्षाहिक—(सं. पुं.) बरसाती साँप ।
 वर्षिक—(सं. वि.) वर्ष या वर्षा-संबंधी ।
 वर्षिता—(सं. वि.) बरसनेवाला ।
 वर्षिष्ठ—(सं. वि.) बहुत बड़ा, अत्यन्त बलवान् ।
 वर्षोका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द ।
 वर्षीय—(सं. वि.) वर्ष-संबंधी ।
 वर्षुक—(सं. वि.) बरसनेवाला ।
 वर्षश—(सं. पुं.) वर्ष का स्वामी ।
 वर्ध्म—(सं. पुं.) शरीर; -वत्—(वि.) शरीर के समान; -वीर्य—(पुं.) शारीरिक बल ।
 वर्ह—(सं. पुं.) मोर का पंख, पत्ता ।
 वर्हण—(सं. पुं.) पत्ता ।
 वर्हिण—(सं. पुं.) मयूर, मोर; -वाहन—(पुं.) कातिकेय ।
 वर्हो—(सं. स्त्री.) मयूर, मोर ।

वर्लंतिका—(सं. स्त्री.) संगीत शास्त्रोक्त स्वर-क्रम का भेद ।
 वलंब—(सं. पुं.) सीधी रेखा के ऊपर लंब रेखा ।
 वल—(सं. पुं.) मेघ, एक असुर का नाम जो बृहस्पति के द्वारा मारा गया था ।
 वलती—(सं. स्त्री.) वह मण्डप जो घर के शिखर पर बना हो, रावटी ।
 वलद्विष्—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 वलन—(सं. पुं.) ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार तक्षत्र आदि का अयनांश से हटकर चलना या विचलन ।
 वलनांश—(सं. पुं.) ज्योतिष के अनुसार किसी ग्रह का अयनांश से हटकर चलने की अथवा वक्र गति की दूरी ।
 वलनाशन, वलनिसूदन—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 वलभी—(सं. स्त्री.) घर की चोटी, घर के शिखर पर बना हुआ मण्डप, एक प्राचीन राजवंश का नाम ।
 वलय—(सं. पुं.) मण्डल, वेष्टन, कंकण, चूड़ी, गोल घेरा ।
 वलयित—(सं. वि.) घिरा हुआ, गोल मुड़ा हुआ ।
 वलसूदन—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 वलाट—(सं. पुं.) मुद्ग, मूंग ।
 वलाहक—(सं. पुं.) मेघ, बादल, पर्वत, एक दैत्य का नाम ।
 वलि—(सं. पुं.) रेखा, लकीर, पेट में पड़ी हुई सिकुड़न, देवी-देवता को अर्पण करने की वस्तु, एक प्रकार का वाजा, श्रेणी, पंक्ति, राजकर, छाजन की ओलती, एक दैत्य जो प्रह्लाद का पीत्र था जिसको विष्णु ने वामन का अवतार लेकर छला था ।
 वलिक—(सं. पुं.) ओरी, ओलती ।
 वलित—(सं. वि.) बल खाया हुआ, लचका हुआ, झुकाया या मोड़ा हुआ, आवेष्टित, लिपटा हुआ, सिकुड़ा हुआ, ढपा हुआ, युक्त ।
 वलिमुख—(सं. पुं.) वानर, वंदर ।
 वली—(सं. स्त्री.) श्रेणी, पंक्ति, रेखा, लकीर, झुरी; (अ. पुं.) स्वामी, अधिपति, संरक्षक ।
 वलीमुख—(सं. पुं.) वंदर ।
 वल्क—(सं. पुं.) वल्कल, छाल; -तर—(पुं.) सुपारी का वृक्ष; -द्रुम—(पुं.) माजपत्र का पेड़ ।
 वल्कल—(सं. पुं.) वृक्ष की छाल, इसका बना हुआ वस्त्र ।
 वल्कली—(सं. वि.) वल्कलधारी, छाल का

वस्त्र पहिननेवाला ।

वल्गन—(सं. पुं.) घोड़े की दुलकी चाल ।

वल्गु, वल्गुज—(सं. पुं.) छाग, बकरी ;
-पत्र—(पुं.) वनभूंग ।

वल्गुल—(सं. पुं.) श्रुगाल, सियार ।

वल्गुली—(सं. स्त्री.) चमगादड़, पिटारा ।

वल्द—(अ. पुं.) पुत्र, बेटा ।

वल्मीक—(सं. पुं.) दीमक का लगाया हुआ

मिट्टी का स्तूप, बाँधी, वाल्मीकि ऋषि ।

वल्कक—(सं. पुं.) एक प्रकार का समुद्री
जन्तु ।

वल्ककी—(सं. स्त्री.) वीणा, वीन ।

वल्कभ—(सं. वि.) प्रिय, प्यारा ; (पुं.)
अध्यक्ष, अति प्रिय व्यक्ति, प्यारा मित्र,
नायक, वल्कभ संप्रदाय के प्रसिद्ध
आचार्य, वल्कभाचार्य ।

वल्कभा—(सं. स्त्री.) प्यारी स्त्री ; (वि.
स्त्री.) प्रियतमा, प्यारी ।

वल्कभाचार्य—(सं. पुं.) वल्कभाचारी
वैष्णव सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता एक
आचार्य ।

वल्कभी—(सं. पुं.) देखें 'वलभी' ।

वल्कर—(सं. पुं.) मंजरी, कुंज ।

वल्करि, वल्करी—(सं. स्त्री.) बल्ली,
मंजरी, लता, एक प्रकार का बाजा ।

वल्कव—(सं. पुं.) अज्ञातवास के समय
भीमसेन ने अपना यह नाम रखा था ।

वल्किल—(सं. स्त्री.) लता, पृथ्वी ।

वल्किका—(सं. स्त्री.) पोई का साग ।

वल्ली—(सं. स्त्री.) लता, अजमोदा ।

वल्कुर—(सं. पुं.) निर्जन या दुर्गम स्थान ।

वल्कर—(सं. पुं.) सूखा मांस, सूअर का
मांस, ऊसर भूमि, उजाड़ स्थान, जंगल ।

वल्कज—(सं. पुं.) उलखल, ओखली ।

वल्कल—(सं. पुं.) एक दैत्य जिसको
वलरामजी ने मारा था ।

वव—(सं. पुं.) फलित ज्योतिष के अनुसार
ग्यारह करणों में से एक ।

ववकृत—(सं. वि.) वव में किया हुआ ।

वववद—(सं. वि.) वशीभूत ; (पुं.) दास,
आज्ञाकारी सेवक ।

वव—(सं. पुं.) इच्छा, एक व्यक्ति का
दूसरे पर प्रभाव, अधिकार, अनुकूल करने

की शक्ति, वैश्याओं का रहने का स्थान ;

-कर—(वि.) वव में करनेवाला ;

-का—(स्त्री.) वव में लाई हुई स्त्री ;

-क्रिया—(स्त्री.) वशीकरण ; -ग—

(वि.) वशीभूत ; -गत—(वि.) वशीभूत ;

-गमन—(पुं.) वशीभूत होना ; -गा—

(स्त्री.) वशीभूत स्त्री ; -गामी—(वि.)

वव में लाया हुआ ; -ता—(स्त्री.) वव
में होने का भाव या धर्म ; -तीय—(वि.)

वव में करने योग्य ; -वर्ती—(वि.)

वशीभूत, जो दूसरे के वव में हो ।

ववशा—(सं. स्त्री.) वाँझ स्त्री, पत्नी, पति
की बहन, ननद, वशीभूत स्त्री ।

ववशानुग—(सं. वि.) वशीभूत, आज्ञा-
कारी ।

ववशिता—(सं. स्त्री.) अधीनता, मोहने की
क्रिया या भाव, मोहन ।

ववशित्व—(सं. पुं.) योग के आठ ऐश्वर्यों
में से एक जिसके सिद्ध होने पर साधक
सब को अपने वव में कर लेता है ।

ववशनी—(सं. स्त्री.) शमी का वृक्ष ।

ववशमा—(सं. स्त्री.) योग की आठ
सिद्धियों में से एक ।

ववशिष्ट—(सं. पुं.) देखें 'वसिष्ठ' ।

ववशी—(सं. वि.) जितेन्द्रिय, अपने को वव
में रखनेवाला, अधीन, वव में लाया

हुआ ; -करण—(पुं.) (मणि, मन्त्र या
औषध) के द्वारा किसी को अपने वव में

करना ; -कृत—(वि.) मोहित, मुग्ध,
वव में किया हुआ ; -भूत—(वि.) वव

में लाया हुआ, अधीन ।

ववश्य—(सं. वि.) किसी की इच्छा के
अधीन ; (पुं.) दास, सेवक ; -ता—

(स्त्री.) वव में होने की अवस्था ;
-त्व—(पुं.) देखें 'ववशयता' ।

ववश्या—(सं. स्त्री.) वशीभूता स्त्री,
गोरोचना ।

ववषट्—(सं. अव्य.) इस शब्द का उच्चा-
रण अग्नि में आहुति देते समय होता है ;

-कार—(पुं.) देवताओं के उद्देश्य से
किया हुआ यज्ञ ।

ववषट्कणी—(सं. स्त्री.) वकेना गाय ।

ववसंत—(सं. पुं.) चैत्र और वैशाख महीने की
ऋतु, एक राग का नाम, एक ताल का

नाम, फूलों का गुच्छा, मसूरिका रोग,
चेचक ; -काल—(पुं.) वसंत ऋतु ;

-जा—(स्त्री.) सफेद जूही ; -तिलक—

(पुं.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक
चरण में चौदह अक्षर होते हैं ;

-तिलका—(स्त्री.) एक वर्णवृत्त का
नाम ; -इत—(पुं.) चैत्र मास, कोयल,

आम का वृक्ष ; -इती—(स्त्री.) पाटली
वृक्ष, माधवी लता, कोयल ; -पंचमी—

(स्त्री.) माघ शुक्ला पंचमी, श्री-पंचमी ;
-बंधु—(पुं.) कामदेव ; -भैरवी—(स्त्री.)
एक रागिनी का नाम ; -मारु—(पुं.)
संपूर्ण जाति का एक राग ; -मालिका—

(स्त्री.) एक छन्द का नाम ; -रोग—

(पुं.) मसूरिका, चेचक ; -ललना—

(स्त्री.) सफेद जूही ; -वाक्—(पुं.)
चौदह तालों में से एक ताल का नाम ;

-वितल—(पुं.) विष्णु की एक मूर्ति ;
-व्रण—(पुं.) मसूरिका रोग ; -शेखर—

(पुं.) किन्नरों का एक भेद ; -सख—

(पुं.) कामदेव ।

ववसंतोत्सव—(सं. पुं.) फाल्गुन में होनेवाला
होली का उत्सव, एक उत्सव जो

प्राचीन काल में वसंत पंचमी के दूसरे
दिन होता था ।

ववसती—(सं. स्त्री.) निकेतन, घर, वास-
स्थान ।

ववसन—(सं. पुं.) वस्त्र, आवरण, ढापने
की वस्तु, निवास, स्त्रियों की कमर का

एक आभूषण ।

ववसनार्णवा—(सं. स्त्री.) भूमि, पृथ्वी ।

ववसह—(हिं. पुं.) वृषभ, बैल ।

ववसा—(सं. स्त्री.) भेद-धातु, चरबी, भेजा ।

ववसादनी—(सं. पुं.) पीला शीशम ।

ववसामेह—(सं. पुं.) एक प्रकार का मूत्र-
रोग जिसमें मूत्र के साथ वसा गिरती है ।

ववसारोह—(सं. पुं.) छत्रक, कुकुरमुत्ता ।

ववसि—(सं. वि.) वसन, वस्त्र ।

ववसिक—(सं. वि.) शून्य, रिक्त, खाली ।

ववसितव्य—(सं. वि.) पहनने योग्य ।

ववसिष्ठ—(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध मन्त्रद्रष्टा
ऋषि, सप्तर्षि मण्डल का एक तारा ;

-पुराण—(पुं.) एक उपपुराण का नाम ;
-संहिता—(स्त्री.) एक स्मृति का नाम ।

ववसीयत—(अ. स्त्री.) वह लिखित व्यवस्था,
लेख्यपत्र आदि जो कोई व्यक्ति अपने

मरणोपरांत अपनी सम्पत्ति के विभाजन
या उत्तराधिकार के लिए निर्धारित कर

जाता है ।

ववसीयतनामा—(अ. पुं.) वसीयत-संबंधी
लेख्यपत्र ।

ववसुधरा—(सं. स्त्री.) पृथ्वी ।

ववसु—(मं. पुं.) अगस्त्य का वृक्ष, अग्नि,
किरण, देवताओं का एक गण जिसके

अन्तर्गत आठ भेद हैं ; यथा—वर, ध्रुव,
सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्युष और

प्रभास ; कुबेर, शिव, सूर्य, वृक्ष, माधु-
पुरुष, सज्जन, कुलीन कायस्थ की

पदवी विशेष, छपय का एक भेद, रत्न,
घन, सुवर्ण, जल, आठ की संख्या ;

(स्त्री.) दक्ष-प्रजापति की एक कन्या का
नाम ; (वि.) मधुर ; -चरण—(पुं.)
भगण के चौथे भेद का नाम जिसके

आदि में गुरु तथा वाद में दो लघु वर्ण होते हैं; -चारुक- (पुं.) सुवर्ण, सोना; -द- (पुं.) कुबेर; -दा- (स्त्री.) माली राक्षस की पत्नी का नाम, पृथ्वी; -दान- (पुं.) धनदान; -देव- (पुं.) श्रीकृष्ण के पिता का नाम; -देवत- (पुं.) धनिष्ठा नक्षत्र; -धर्मिका- (स्त्री.) स्फटिक, विल्वौर; -धा- (स्त्री.) पृथ्वी; -धान- (पुं.) धनदान; -धानी- (स्त्री.) पृथ्वी; -धारा- (स्त्री.) कुबेर की पुरी, अलका, जैन शक्ति-विशेष; -धारी- (वि.) सम्पत्ति-शाली; -नेत्र- (पुं.) ब्रह्मा; -पति- (पुं.) कृष्ण; -पाल- (पुं.) पृथ्वीपति, राजा; -प्रद- (पुं.) कुबेर, शिव, स्कन्द के एक अनुचर का नाम; -प्रभा- (स्त्री.) अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक का नाम; -प्राण- (पुं.) अग्नि; -भ- (पुं.) धनिष्ठा नक्षत्र; -भरित- (वि.) वनपूर्ण; -मती- (स्त्री.) पृथ्वी, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ६ वर्ण होते हैं; -रुचि- (पुं.) एक गन्धर्व का नाम; -रूप- (पुं.) शिव, महादेव; -रेता- (पुं.) शिव, महादेव, अग्नि; -वह- (पुं.) एक मुनि; -श्री- (स्त्री.) स्कन्द की एक मातृका का नाम, वसु-धारा; -स्थली- (स्त्री.) कुबेर की नगरी, अलकापुरी; -हंस- (पुं.) वसुदेव के एक पुत्र का नाम।

वसूक- (सं. पुं.) अगस्त्य का वृक्ष।
वसूत्तम- (सं. पुं.) बहुत बड़ा धनी।
वसूमती- (सं. स्त्री.) पृथ्वी।
वसुप्रा- (सं. स्त्री.) धन की कामना।
वसूल- (अ. वि.) लब्ध या प्राप्त (धन, लेना-पावना आदि)।
वसूली- (अ. स्त्री.) प्राप्ति, मिली हुई रकम।
वस्तव्य- (सं. वि.) वास के योग्य।
वस्तव्यता- (सं. स्त्री.) वस्तव्य होने का भाव या धर्म।
वस्ति- (सं. स्त्री.) पेट का नाभि के नीचे का भाग, पेड़, मूत्राशय, पिचकारी।
वस्तिकर्म- (सं. पुं.) (गुदा, योनि अथवा लिङ्गद्वय के मार्गों से) पिचकारी द्वारा औषध या जल चढ़ाने की क्रिया।
वस्तिवात- (सं. पुं.) एक मूत्र-रोग।
वस्तु- (सं. पुं.) वह जिसको सत्ता या अस्तित्व हो, वह जो सचमुच हो, गोचर पदार्थ, वृत्तान्त, कथा-वस्तु, नाटक का आख्यान; -ज्ञान- (पुं.) किसी वस्तु का ज्ञान, तत्त्वज्ञान; -तः- (अव्य.)

यथार्थ में, सचमुच; -निर्देश- (पुं.) नाटक के मंगलाचरण का एक भेद जिसमें उसकी कथा का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है; -बल- (पुं.) किसी पदार्थ का गुण; -भाव- (पुं.) वस्तु का धर्म या गुण; -भेद- (पुं.) वस्तु का प्रकार; -वाद- (पुं.) वह दार्शनिक सिद्धान्त जिसके अनुसार संसार की सत्ता उसी रूप में मानी जाती है जैसी वह सामान्य मनुष्य को दृष्टिगोचर है, (यह सिद्धान्त अद्वैतवाद के विपरीत है); -विचार- (पुं.) वस्तु का गुण-निर्धारण; -शासन- (पुं.) वस्तुविचार; -ज्ञान्य- (वि.) द्रव्यहीन।

वस्तूपमा- (सं. स्त्री.) उपमा अलंकार का एक भेद।

वस्त्र- (सं. पुं.) कपड़ा, पोशाक; -कुट्टिम- (पुं.) खेमा; -गृह- (पुं.) छोलदारी, छोटा तंबू; -ग्रंथि- (स्त्री.) इजारबंद; -घघरी- (स्त्री.) एक प्रकार की छलनी; -द- (वि.) वस्त्र देनेवाला; -परिधान- (पुं.) कपड़ा पहनना; -पुत्रिका- (स्त्री.) कपड़े की गुड़िया; -भूषणा- (स्त्री.) मजीठ; -युगम- (पुं.) कपड़े का जोड़ा; -रंजक- (पुं.) कुसुम का वृक्ष; -विलास- (पुं.) अच्छा कपड़ा पहनकर गर्व करना; -वेश- (पुं.) कपड़े का बना हुआ धर, खेमा; -वेष्टित- (वि.) वस्त्र से लपेटा हुआ।

वस्त्रांचल- (सं. पुं.) कपड़े का छोर।
वस्त्रागार- (सं. पुं.) कपड़े की दुकान।
वस्त्री- (सं. वि.) कपड़ा पहने हुए।
वस्न- (सं. पुं.) बल्कल, छाल, द्रव्य, धन।
वहंत- (सं. पुं.) वायु, वाहक।
वह- (हि. सर्व.) इस शब्द से किसी मनुष्य या स्त्री का संकेत होता है, कर्ताकारक प्रथम पुरुष सर्वनाम का एकवचन शब्द, यह शब्द दूर या परोक्ष की वस्तु के निर्देश के लिए विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है; (सं. वि.) वाहक, ले जानेवाला; (सं. पुं.) घोड़ा, वायु, मार्ग।
वहन- (सं. पुं.) बेंड़ा, मार ले जाने का कार्य, (उत्तरदायित्व) अपने ऊपर लेना, उठाना, किसी वस्तु को सिर, कंधे आदि पर रखकर कहीं ले जाना।
वहनीय- (सं. वि.) ले जाने योग्य जिम्मे-दारी लेने योग्य।
वहम- (अ. पुं.) भ्रम, संशय, मिथ्या वारणा।
वहमी- (अ. वि.) वहमयुक्त, संशय करने-वाला।

वहल- (सं. पुं.) नौका; (वि.) पुष्ट, दृढ़।
वहला- (सं. स्त्री.) बड़ी इलायची, एक रागिनी का नाम।

वहाँ- (हि. अव्य.) उस स्थान में या पर, उस जगह।

वहिर- (सं. अव्य.) बाहर।

वहिल- (सं. वि.) प्रसिद्ध, प्रख्यात, प्राप्त।

वहिन- (सं. पुं.) नौका, नाव।

वहिनी- (सं. स्त्री.) नौका, नाव।

वहिरंग- (सं. पुं.) शरीर का बाहरी भाग, बाहरी मनुष्य, वह मनुष्य जो किसी गुट का न हो, यज्ञ आदि में पहले किया जानेवाला कृत्य; (वि.) ऊपरी, बाहरी।

वहिरिन्द्रिय- (सं. स्त्री.) कर्मेन्द्रिय।

वहिरगत- (सं. वि.) बाहर किया हुआ, निकाला हुआ।

वहियमन- (सं. पुं.) किसी काम से घर के बाहर जाना।

वहिर्यगत्- (सं. पुं.) दृश्यमान जगत्।

वहिवश- (सं. पुं.) विदेश, परदेश।

वहिर्यार- (सं. पुं.) घर का बाहरी फाटक, तोरण।

वहिव्वजा- (सं. स्त्री.) दुर्गा देवी।

वहिव्व- (सं. वि.) बाह्य प्रकृति का।

वहिव्वन- (सं. पुं.) बाहर का घर।

वहिव्व- (सं. वि.) बाह्य भाव।

वहिर्युत- (सं. वि.) वहिरगत, बाहर किया हुआ।

वहियमनस्- (सं. वि.) मन के बाहर का।

वहियुख- (सं. वि.) बाहरी, विमुख।

वहियोग- (सं. पुं.) हठ-योग।

वहिलीपिका- (सं. स्त्री.) प्रहेलिका, वह पहली जिसके उत्तर का पूरा शब्द उसमें नहीं होता।

वहिशचर- (सं. पुं.) कर्कट, केकड़ा।

वहियकरण- (सं. पुं.) वहियकार।

वहियकार- (सं. पुं.) दूर करना, त्यागना।

वहियकार्य- (सं. वि.) वहियकार करने योग्य।

वहियकृत- (सं. वि.) बाहर किया हुआ, त्यागा हुआ, निकाला हुआ।

वहियकृति- (सं. स्त्री.) वहियकार।

वहिय- (सं. वि.) अधिक मार उठाने-वाला।

वहियप्राण- (सं. पुं.) श्वासवायु, प्राणतुल्य प्रिय वस्तु।

वहीं- (हि. अव्य.) उसी स्थान पर।

वही- (हि. सर्व.) पूर्वोक्त व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके संबंध में कुछ कहा जा चुका हो, निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्तु।

वाङ्मलि-(सं. पुं.) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम ।

वाद्य-(सं. पुं.) वाजा; -क-(पुं.) वाजा बजानेवाला ।

वान-(हिं. पुं.) देखें 'वाण' ।

वानप्रस्थ-(सं. पुं.) मनुष्य का वृक्ष, पलाश वृक्ष, आर्यों की प्राचीन पद्धति के अनुसार मनुष्य के जीवन का तीसरा आश्रम ।

वानर-(सं. पुं.) बंदर, दोहे का एक भेद जिसके प्रत्येक चरण में दस गुरु और अठ्ठाईस लघुवर्ण होते हैं; -केतन, -केतु-(पुं.) अर्जुन; -प्रिय-(पुं.) खिरनी ।

वानरी-(सं. स्त्री.) बंदरिया, मर्कटी, केवाँच ।

वानरी-बीज-(सं. पुं.) केवाँच का बीज ।

वानरेंद्र-(सं. पुं.) सुग्रीव, हनुमान ।

वानल-(सं. पुं.) काली तुलसी ।

वानवासिका-(सं. स्त्री.) सोलह मात्राओं के छन्दों का एक भेद, चौपाई का एक भेद जिसमें नवीं और बारहवीं मात्राएँ लघु होती हैं ।

वानस्पत्य-(सं. वि.) वनस्पति-संबंधी ।

वानोर-(सं. पुं.) वेंत, पाकड़ का वृक्ष ।

वानोरक-(सं. पुं.) मूँज ।

वाप-(सं. पुं.) वपन, बोना, मुंडन, क्षेत्र ।

वापक-(सं. पुं.) बीज बोनेवाला ।

वापन-(सं. पुं.) बीज बोना ।

वापस-(फा. वि.) प्रत्यावर्तित, लौटा या लौटाया हुआ ।

वापसी-(फा. स्त्री.) लौटने या लौटाने की क्रिया या भाव, प्रत्यावर्तन; (वि.) देखें 'वापस' ।

वापिका-(सं. स्त्री.) वापी, बावली ।

वापित-(सं. वि.) मूँड़ा हुआ, बोया हुआ ।

वापी-(सं. स्त्री.) छोटा जलाशय, बावली ।

वाम-(सं. वि.) बायाँ, प्रतिकूल, विरुद्ध; खोटा, दुष्ट, नीच, टेढ़ा, कुटिल, बुरा; (पुं.) कामदेव, वरुण, कृष्ण के एक पुत्र का नाम, घन, कुच, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चौबीस अक्षर होते हैं जिसको मकरन्द, माघवी या मंजरी भी कहते हैं; एक खर का नाम; -देव-(पुं.) शिव, महादेव, राजा वशरथ के एक मन्त्री का नाम; -देवी-(स्त्री.) दुर्गा, सावित्री; -नेत्र-(पुं.) बाईं आँख; -नेत्रा-(स्त्री.) सुन्दर नेत्रोंवाली स्त्री; -मार्ग-(पुं.) एक तान्त्रिक मत जिसमें गठ, माल, मत्स्य, मुद्रा और मैथुने द्वारा

देवी की पूजा की जाती है; राजनीति में हिसात्मक क्रांति की समर्थक विचार-धारा; -मार्ग-(वि., पुं.) वाममार्ग का समर्थक; -लौचना-(स्त्री.) सुन्दरी स्त्री ।

वामन-(सं. वि.) छोटे डीलडौल का, नाटा, बौना; (पुं.) विष्णु का पाँचवाँ अवतार जो बलि को छलने के लिये अदिति के गर्भ से हुआ था, एक पुराण का नाम, विष्णु, शिव, एक दिग्गज का नाम; -द्वादशी-(स्त्री.) भादों शुक्ला द्वादशी ।

वामना-(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम ।

वामनिका-(सं. स्त्री.) बौनी स्त्री, स्कन्द की एक मातृका का नाम ।

वामनी-(सं. स्त्री.) बौनी स्त्री, घोड़ी; -कृत-(वि.) वामन या छोटा किया हुआ ।

वामा-(सं. स्त्री.) दुर्गा, स्त्री, एक वर्ण-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दस अक्षर होते हैं ।

वामाक्षी-(सं. स्त्री.) सुन्दर स्त्री ।

वामावर्त(त्तं)-(सं. पुं.) किसी देव-प्रतिमा की बाईं ओर से घूमकर की जानेवाली प्रदक्षिणा ।

वामिल-(सं. वि.) पाखंडी, दंभी ।

वामी-(सं. स्त्री.) शृगालिका, घोड़ी ।

वामेतर-(सं. वि.) बायाँ का उलटा, दाहिना ।

वामोद्(रु)-(सं. वि., स्त्री.) सुंदर जाँघों-वाली (स्त्री), सुंदरी स्त्री ।

वायक-(सं. पुं.) जुलाहा, बुननेवाला ।

वायदंड-(सं. पुं.) जुलाहे की ढरकी ।

वायन-(सं. पुं.) विवाहादि के उपलक्ष्य में बनाया हुआ पकवान ।

वायवी-(सं. स्त्री.) उत्तर-पश्चिम का कोण ।

वायवीय-(सं. वि.) वायु-संबंधी ।

वायव्य-(सं. वि.) वायु-संबंधी; (पुं.) पश्चिमोत्तर दिशा जिसका अविपत्ति वायु है, वायुपुराण, एक अस्त्र का नाम ।

वायस-(सं. पुं.) अगर का वृक्ष, काक, कौआ ।

वायसतुंड-(सं. पुं.) कौआठोंठी ।

वायसांतक-(सं. पुं.) पेचक, उल्लू ।

वायसी-(सं. स्त्री.) सफेद घुंघची, कौआ-ठोंठी, छोटी मकोय ।

वायु-(सं. स्त्री.) हवा, वात; -कोण-(पुं.) पश्चिमोत्तर दिशा; -गुल्म-(पुं.) चक्रवात, बवंडर; -पुत्र-(पुं.) भीम, हनुमान; -मंडल-(पुं.) आकाश;

-लोक-(पुं.) पुराण के अनुसार एक लोक का नाम, आकाश; -बाह-(पुं.) धुआँ; -सख-(पुं.) अग्नि; -सखि-(पुं.) अग्नि, आग; -सूनु-(पुं.) हनुमान ।

वारक-(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया ।

वारंग-(सं. पुं.) अँकुसी के आकार का एक शस्त्र ।

वारंवार-(हिं. अव्य.) देखें 'वारंवार' ।

वार-(सं. पुं.) द्वार, अवरोध, रुकावट, आवरण, ढाँपने की वस्तु, क्षण, अवसर, सप्ताह का कोई दिन, वाण, समुद्र या नदी का तट, मद्य पीने का पात्र, दाँव, वारी; (हिं. पुं.) आक्रमण, आघात, चोट, प्रहार; (मुहा.)-खाली जाना-युक्त विफल होना ।

वारक-(सं. वि.) निषेध करनेवाला ।

वारकन्या-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।

वारटा-(सं. स्त्री.) हँसी ।

वारण-(सं. पुं.) निषेध, रुकावट, बाधा, हाथी, अंकुश, कवच, हरताल, छप्पय छन्द का एक भेद ।

वारणावत-(सं. पुं.) गंगा के किनारे का एक प्राचीन जनपद जहाँ पांडवों को जलाने के लिये दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाया था ।

वारणीय-(सं. वि.) निषेध करने योग्य ।

वारणेंद्र-(सं. पुं.) सुन्दर हाथी ।

वारणिय-(हिं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।

वारद-(हिं. पुं.) मेघ, बादल ।

वारन-(हिं. स्त्री.) निछावर, बलि; (पुं.) बंदनवार, तोरण ।

वारना-(हिं. क्रि. अ.) उत्सर्ग करना, निछावर करना; (मुहा.) वारने जाना-निछावर होना ।

वारनारी-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।

वारपार-(हिं. पुं.) (नदी, झील आदि के) दोनों किनारे, पूरा विस्तार, इधर-उधर का छोर; (अव्य.) इस किनारे से उस किनारे तक, पूरी चौड़ाई या मोटाई तक ।

वार-फेर-(हिं. स्त्री.) निछावर, बलि, वह खपया-पैसा जो वर तथा वधू के सिर पर से घुमाकर परजुनियों को बाँटा जाता है ।

वारमुखी-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।

वारमुख्या-(सं. स्त्री.) श्रेष्ठ वारांगना ।

वारयितव्य-(सं. वि.) निवारण करने योग्य ।

वारयिता-(सं. पुं.) पति, स्वामी ।

वारयुवती-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।

वारवधू-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।

धारवाणि—(सं. पुं.) बंसी बजानेवाला, न्यायाधीश ।
 वारविलासिनी, वारसुंदरी, वारस्त्री—(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
 वारंगणा (ना)—(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
 वारानिधि—(सं. पुं.) समुद्र ।
 वारा—(हिं. पुं.) लाभ, व्यय की वचत; (वि.) उत्सर्ग या निष्कावर किया हुआ, सस्ता ।
 वाराणसी—(सं. स्त्री.) काशी का प्राचीन नाम ।
 वारा-न्यारा—(हिं. पुं.) निर्णय, किसी झगड़े का निपटारा ।
 वारालिका—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी ।
 वाराह—(सं. पुं.) शूकर, सूअर, देखें 'वराह'; -पत्नी—(स्त्री.) असंगंध ।
 वाराही—(सं. स्त्री.) एक मातृका का नाम, एक योगिनी, वाराहीकन्द, कंगनी; -कंद—(पुं.) एक प्रकार का बड़ा कंद, गेंठी ।
 वारि—(सं. पुं.) जल, पानी, कोई तरल पदार्थ; (स्त्री.) वाणी, सरस्वती, छोटी गगरी; -कंदक—(पुं.) सिंघाड़ा; -फोल—(पुं.) कछुआ; -गर्भोदर—(पुं.) मेघ, बादल; -चत्वर—(पुं.) कुम्भिका, सिंघाड़ा; -चामर—(पुं.) शंवाल, सेवार; -ज, -जात—(पुं, वि.) जल में उत्पन्न, कमल, मछली, शंख, कौड़ी; -तस्कर—(पुं.) मेघ, बादल; -द—(पुं.) मेघ, बादल, नागरमोथा; -द्र—(पुं.) चातक, पपीहा; -घर—(पुं.) देखें 'वारिद'; -धार—(पुं.) मेघ, बादल; -धारा—(स्त्री.) जल की धारा; -धि, -नाथ—, -निधि—(पुं.) समुद्र; -धंत्र—(पुं.) जलयंत्र; -राशि—(पुं.) समुद्र; -रह—(पुं.) कमल; -वर्त—(पुं.) एक मेघ का नाम; -वाह—(पुं.) मेघ, मोथा; -श—(सं. पुं.) विष्णु ।
 वारित—(सं. वि.) रोका हुआ ।
 वारियाँ—(हिं. स्त्री.) निष्कावर, बलि; (मुहा.) -जाऊँ-तुम पर निष्कावर हूँ ।
 वारिस—(अ. पुं.) उत्तराधिकारी ।
 वारोद्र—(सं. पुं.) समुद्र ।
 वारी—(सं. स्त्री.) हाथी बाँधने की सिकड़ी, छोटा गगरा ।
 वारीट—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी ।
 वारीफेरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'वारफेर', निष्कावर ।
 वारीश—(सं. पुं.) समुद्र ।

वारुण—(सं. पुं.) शतभिषा नक्षत्र, जल, हरताल, एक अस्त्र का नाम; -कर्म—(पुं.) जलाशय बनाने का काम ।
 वारुणी—(सं. स्त्री.) मदिरा, वरुण की स्त्री, कदंब के फलों से बनाया हुआ मद्य, एक पर्व का नाम, भुईं-आमला, शतभिषा नक्षत्र, उपनिषद् विद्या, पश्चिम दिशा ।
 वारुण्य—(सं. वि.) वरुण-संबंधी ।
 वारुण्यं—(सं. वि.) वृक्ष-संबंधी ।
 वारुणिक—(सं. पुं.) लेखक ।
 वारुणिक—(सं. पुं.) बटेर नामक पक्षी ।
 वारुणा—(सं. स्त्री.) किंवदन्ती, वृत्तान्त, समाचार, प्रसंग, विषय, बात ।
 वारुण्यन—(सं. पुं.) दूत ।
 वारुणालाप—(सं. पुं.) बातचीत ।
 वारुणवह—(सं. पुं.) समाचार ले जानेवाला दूत ।
 वारुणिक—(सं. पुं.) दूत, चर, आचार-शास्त्र का अध्ययन करनेवाला, व्याख्या, मौलिक ग्रन्थ के अर्थों को स्पष्ट करनेवाला ग्रंथ ।
 वारुणर—(सं. पुं.) रेशम, जल, आम की गुठली ।
 वारुण्य—(सं. पुं.) वृद्धि, बढ़ती, बुढ़ापा ।
 वारुणद—(सं. पुं.) घड़ियाल ।
 वारुण्ट—(सं. पुं.) नौका, नावों का वेड़ा ।
 वारुणभ—(सं. वि.) वृषभ-संबंधी ।
 वारुणिक—(सं. वि.) वर्ष-संबंधी, प्रति वर्ष होनेवाला, वर्षा ऋतु का ।
 वारुणिकी—(सं. स्त्री.) वेले का फूल, वर्ष में नियमित रूप से होनेवाला समारोह, पूजन आदि ।
 वारुणिक, वारुण्य—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण ।
 वारुण—(सं. पुं.) केश, बालक ।
 वारुणक—(सं. पुं.) कंकण, अँगूठी, शिशु, बालक, केश, बाल ।
 वारुणव—(सं. पुं.) ज्योतिष में एक करण का नाम ।
 वारुणा—(सं. स्त्री.) इन्द्रवज्रा और उपेन्द्र-वज्रा के मेल से बना हुआ एक छंद; (हिं. अव्य.) संबंधसूचक प्रत्यय (कर्तृत्व, खामित्व आदि का सूचक) ।
 वारुणिका—(सं. स्त्री.) कान में पहनने का एक गहना, वाली ।
 वारुणिक—(अ. पुं.) पिता, बाप ।
 वारुणिका—(अ. स्त्री.) माता, माँ ।
 वारुणी—(सं. पुं.) नुगीव का बड़ा भाई; (हिं. प्रत्य.) 'वारुण' का स्त्री लिंग रूप ।
 वारुणिका—(सं. स्त्री.) रेत, बालू, कपूर; -प्रभा—(स्त्री.) एक नरक का नाम; -धंत्र—(पुं.) ओषध बनाने का एक यंत्र ।

वालैय—(सं. पुं.) गर्दभ, गदहा, पुत्र ।
 वालकली—(सं. स्त्री.) मदिरा ।
 वाल्मीकि—(सं. पुं.) संस्कृत के आदि कवि जिनकी बनाई हुई रामायण अति प्रसिद्ध है ।
 वाल्मीकीय—(सं. वि.) वाल्मीकि-संबंधी ।
 वावडूक—(सं. वि.) वाग्मी, अच्छा बोलनेवाला ।
 वाशन—(सं. पुं.) पक्षियों का बोलना; (वि.) चहचहानेवाला ।
 वाशिता—(सं. स्त्री.) हथिनी, मादा हाथी ।
 वाशिष्ठ—(सं. वि.) वशिष्ठ-संबंधी; (पुं.) एक उपपुराण का नाम ।
 वाशिष्ठी—(सं. स्त्री.) गोमती नदी ।
 वाश्र—(सं. पुं.) मन्दिर, चौराहा ।
 वाष्प—(सं. पुं.) अश्रु, आँसू, लोहा, माफ ।
 वासंत—(सं. पुं.) ऊँट, कोयल, मूंग ।
 वासंतक—(सं. वि.) वसन्त ऋतु-संबंधी ।
 वासंतिक—(सं. पुं.) भाँड़, विद्रूपक, नाचनेवाला; (वि.) वसंत-संबंधी ।
 वासंती—(सं. स्त्री.) माघवी लता, जूही, मदनोत्सव, दुर्गा, एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चौदह वर्ण होते हैं ।
 वास—(सं. पुं.) अवस्थान, गृह, घर ।
 वासक—(सं. पुं.) वासर, दिन, ध्रुवक राग का एक भेद, अडसा; -सज्जा—(स्त्री.) वह नायिका जो अपने प्रियतम से मिलने के लिये शृंगार करके उसकी वाट देखती हो ।
 वासगृह—(सं. पुं.) शयनागार, सोने का कमरा, अन्तःपुर ।
 वासगोह—(सं. पुं.) देखें 'वासगृह' ।
 वासतेय—(सं. वि.) वसने योग्य ।
 वासन—(सं. पुं.) धूप आदि से सुगन्धित करना, वस्त्र, ज्ञान ।
 वासना—(सं. स्त्री.) ज्ञान, संस्कार, कामना, इच्छा, अर्क की पत्नी का नाम, दुर्गा; (हिं. क्रि. स.) देखें 'वासना' ।
 वासप्रासाद—(सं. पुं.) रहने योग्य महल ।
 वासभवन—(सं. पुं.) वासगृह ।
 वासभूमि—(सं. स्त्री.) वासस्थान ।
 वासर—(सं. पुं.) दिवस, दिन ।
 वासरकथका—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात ।
 वासरकृत, वासरमणि—(सं. पुं.) सूर्य ।
 वासरसंग—(सं. पुं.) प्रातःकाल ।
 वासराधीश, वासरेश—(सं. पुं.) सूर्य ।
 वासव—(सं. पुं.) घनिष्टा नक्षत्र, इन्द्र ।
 वासवज—(सं. पुं.) वासव का पुत्र अर्जुन ।
 वासवि—(सं. पुं.) इन्द्र का पुत्र अर्जुन ।

वासवी-(सं. स्त्री.) व्यास की माता सत्यवती।
 वास-वेदमं-(सं. पुं.) रहने का घर।
 वासा-(सं. वि.) माघवी लता, अड़ूसा।
 वासि-(सं. पुं.) कुठार, बसूला।
 वासित-(सं. वि.) सुगन्धित किया हुआ, वस्त्र से ढपा हुआ, वासी।
 वासिता-(सं. स्त्री.) हथिनी, स्त्री, आर्या छन्द का एक भेद।
 वासिल-(अ. वि.) प्राप्त, बसूल।
 वासिष्ठ-(सं. वि.) वसिष्ठ-संबंधी; (पुं.) रुधिर।
 वासी-(सं. वि.) बसनेवाला, रहनेवाला; (स्त्री.) बड़ई का बसूला।
 वासु-(सं. पुं.) विष्णु, पुनर्वसु नक्षत्र।
 वासुकि(की)-(सं. पुं.) एक नागराज का नाम।
 वासुदेव-(सं. पुं.) श्रीकृष्ण, अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष।
 वासुभद्र-(सं. पुं.) वासुदेव।
 वासुरा-(सं. स्त्री.) हाथी, रात्रि, भूमि।
 वास्तव-(सं. वि.) सत्य, यथार्थ; -में सचमुच।
 वास्तविक-(सं. वि.) प्रकृत, यथार्थ, सत्य, ठीक।
 वास्तव्य-(सं. वि.) बसने या रहने योग्य, बसनेवाला; (पुं.) बस्ती।
 वास्तु-(सं. पुं.) वह स्थान जिस पर घर बनाया जाता है, घर; -पति-(पुं.) वास्तु का अधिष्ठाता देवता; -परीक्षा-(स्त्री.) वास्तु का शुभाशुभ विचार; -पूजा-(स्त्री.) वास्तु-पति की पूजा जो नये बने हुए घर में प्रवेश करने पर की जाती है; -याग-(पुं.) गृह-प्रवेश के समय किया जानेवाला याग; -विद्या-(स्त्री.) गृह-निर्माण की कला; -शांति-(स्त्री.) गृह-प्रवेश के समय किया जानेवाला शांति-कर्म; -शास्त्र-(पुं.) गृहनिर्माण-विद्या।
 वास्तुक-(सं. पुं.) वयुजा का साग।
 वास्ते-(अ. अव्य.) के लिए, के हेतु।
 वाह-(सं. पुं.) वाहन, सवारी, बैल, मैसा, वायु; (फा. अव्य.) आश्चर्य, प्रशंसा आदि भावसूचक अव्यय, धन्य, शावाश; -वाह-(अव्य.) धन्य-धन्य, क्या कहना है; -वाही-(स्त्री.) साधु-वाद, प्रशंसा।
 वाहक-(सं. पुं.) बोझ ढोने या ले जानेवाला, मारथी।
 वाहन-(सं. पुं.) यान; -ता-(स्त्री.) वाहन का कार्य या धर्म; -प-(पुं.) मार-

वाही पशु की देखरेख करनेवाला।
 वाहनिक-(सं. वि.) बोझ ढोकर जीविका निर्वाह करनेवाला।
 वाहनीय-(सं. वि.) वहन करने योग्य।
 वाहरिपु-(सं. पुं.) महिष, मैसा।
 वाहिक-(सं. पुं.) गाड़ी, छकड़ा।
 वाहित-(सं. वि.) वहन किया हुआ।
 वाहिनी-(सं. स्त्री.) सेना, सेना का एक भेद जिसमें ८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ अश्व तथा ४०५ पैदल सिपाही होते थे।
 वाहिनीपति-(सं. पुं.) सेनापति।
 वाहियात-(फा. वि.) व्यर्थ, निरर्थक, बेकार, रद्दी।
 वाही-(सं. वि.) वहन करनेवाला, वहानेवाला।
 वाहु-(सं. स्त्री.) भुजदण्ड, रेखागणित में किसी क्षेत्र की रेखा, मुजा; -मूल-(पुं.) कांख।
 वाहुल-(सं. पुं.) कार्तिक मास।
 वाहुल्य-(सं. पुं.) अधिकता, आधिक्य।
 वाह्य-(सं. पुं.) सवारी; (वि.) ढोया या चढ़ा जानेवाला; -क-(पुं.) वाहक, गाड़ी, छकड़ा; -त्व-(पुं.) वाह्य का भाव या धर्म।
 वाह्यांतर-(सं. वि.) भीतर और बाहर का।
 वाह्यद्रिय-(सं. पुं.) शरीर की पाँचों इन्द्रियाँ, यथा-आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा।
 वाह्लीक-(सं. पुं.) भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर का एक प्राचीन जनपद, इस देश का घोड़ा, कुंकुम, केशर, एक गन्धर्व का नाम।
 विद-(सं. पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम, प्राप्ति, लाम; (हि. पुं.) देखें 'विदु'।
 विदक-(सं. पुं.) ज्ञाता, जानकार, प्राप्त करनेवाला।
 विदु-(सं. पुं.) जलकण, वृंद, वृंदकी, अनुस्वार, शून्य, कण, कनी, छोटा टुकड़ा; -चित्रक-(पुं.) सफेद चित्तियों का हरिन; -तंत्र-(पुं.) चौपड़ आदि की विसात; -पत्र-(पुं.) भोज-पत्र; -माधव-(पुं.) काशी की एक प्रसिद्ध विष्णु-मूर्ति का नाम।
 विदुर-(हि. पुं.) छोटी विंदी, वृंद की।
 विदुल-(सं. पुं.) एक कौड़ा जिसके स्पर्श से शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं।
 विदुसार-(सं. पुं.) चन्द्रगुप्त के एक पुत्र का नाम, (सम्राट् अशोक इन्ही के पुत्र थे।)
 विध-(हि. पुं.) देखें 'विध्य'।

विध्य-(सं. पुं.) भारत के मध्य भाग सीमा पर का एक प्रसिद्ध पर्वत; -कूट-(पुं.) अगस्त्य मुनि का एक नाम; -वासिनी-(स्त्री.) देवी की एक प्रसिद्ध मूर्ति जो मिर्जापुर के पास अवस्थित है।
 विध्याचल-(सं. पुं.) विध्य पर्वत।
 विध्याचली-(सं. स्त्री.) राजा वलि की पत्नी का नाम।
 विद्व-(सं. पुं.) देखें 'विद्व'।
 विश-(सं. वि.) वीसवाँ।
 विशति-(सं. स्त्री.) वीस की संख्या; -बाहु-(पुं.) रावण।
 विशतीश-(सं. पुं.) वीस गाँवों का स्वामी।
 विशोत्तरी-(सं. स्त्री.) फलित ज्योतिष के अनुसार मनुष्य का शुभाशुभ जानने की एक रीति।
 वि-(सं. उप.) यह विशेष, निषेध, वैरूप्य आदि अर्थों में शब्दों के आदि में लगाया जाता है; (पुं.) आकाश, नेत्र, अन्न।
 विकंकत-(सं. पुं.) एक जंगली वृक्ष, कंटकारी।
 विकंपन-(सं. पुं.) कँपकँपी।
 विकंपित-(सं. वि.) कांपता हुआ, चंचल।
 विक-(सं. पुं.) तुरत की व्यायी हुई गाय का दूध, पीयूष।
 विकच-(सं. वि.) केशरहित।
 विकट-(सं. वि.) विकराल, भयंकर, विशाल, दुर्गम, दुःसाध्य, टेढ़ा, वक्र, कठिन; -त्व-(पुं.) -ता-(स्त्री.) विकरालता; -मूर्ति-(वि.) भयंकर आकृतिवाला; -ददन-(पुं.) भयंकर मुख; -विषाण-(पुं.) साँभर मृग।
 विकटाक्ष-(सं. पुं.) विकराल आँखोंवाला।
 विकटानन-(सं. वि.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; (वि.) जिसकी आकृति महीही।
 विकत्थन-(सं. पुं.) झूठी आत्म-प्रशंसा।
 विकत्थना-(सं. स्त्री.) आत्मश्लाघा।
 विकत्था-(सं. स्त्री.) आत्मप्रशंसा।
 विकथा-(सं. स्त्री.) बेकार बात।
 विकर-(सं. पुं.) व्याधि, रोग, तलवार के बत्तीस हाथों में से एक।
 विकरार-(हि. वि.) विकराल, भयंकर, भीषण, डरावना, व्याकुल।
 विकराल-(सं. वि.) भयंकर, डरावना; -ता-(स्त्री.) भयंकरता।
 विकर्ण-(सं. पुं.) दुर्योधन के एक भाई का नाम।
 विकर्णक-(सं. पुं.) शिव के एक गण का नाम।

विकर्तन—(सं. पुं.) सूर्य, मदार का क्षुप ।
 विकर्त—(सं. पुं.) निषिद्ध-कर्म, दुराचरण ।
 विकर्षण—(सं. पुं.) आकर्षण, खींचना, नाश, वह शास्त्र जिसमें आकर्षण-संबंधी तत्वों का वर्णन हो ।
 विकल—(सं. वि.) व्याकुल, बेचैन, असमर्थ, खंडित, टूटा-फूटा; -ता—(स्त्री.) व्याकुलता ।
 विकलंग—(सं. वि.) जिसका कोई अंग कम, अधिक या टूटा-फूटा हो ।
 विकला—(सं. स्त्री.) कला का साठवाँ भाग, अति सूक्ष्म काल, वह स्त्री जिसका ऋतुधर्म बंद हो गया हो ।
 विकलाना—(हिं. क्रि. अ.) व्याकुल होना ।
 विकलास—(सं. पुं.) एक प्रकार का प्राचीन वाजा ।
 विकलित—(सं. वि.) व्यग्र, व्याकुल ।
 विकली—(सं. स्त्री.) ऋतुहीना स्त्री ।
 विकलेंद्रिय—(सं. वि.) जिसकी इन्द्रियाँ उसके वश में न हों ।
 विकल्प—(सं. पुं.) भ्रान्ति, धोखा, विभिन्नता, चित्त में किसी बात को स्थिर करके उसके विरुद्ध सोचना, विरुद्ध कल्पना, अनेक नियमों आदि में से एक को ग्रहण करना, योग के अनुसार एक प्रकार की चित्त-वृत्ति, वह काव्यालंकार जिसमें दो विरुद्ध बातों में से एक का होना कहा जाता है, विचित्रता, व्याकरण में किसी नियम के दो या अधिक भेदों में से इच्छानुसार किसी एक का ग्रहण ।
 विकल्पित—(सं. वि.) अनियमित, संदिग्ध ।
 विकल्पी—(सं. वि.) विकल्पयुक्त ।
 विकल्पमथ—(सं. वि.) पापरहित ।
 विकवच—(सं. वि.) कवचरहित ।
 विकश्चर—(सं. वि.) विकासशील ।
 विकस—(सं. पुं.) चन्द्रमा ।
 विकसन—(सं. पुं.) फूटना, खिलना ।
 विकसना—(हिं. क्रि. अ.) विकसना, खिलना ।
 विकसित—(सं. वि.) फूल, खिला हुआ ।
 विकस्वर—(सं. वि.) विकास होनेवाला, खिलनेवाला; (पुं.) वह काव्यालंकार जिसमें पहले कोई बात कही जाती है और बाद में किसी सामान्य बात से उसकी पुष्टि की जाती है ।
 विकार—(सं. पुं.) किसी वस्तु के रूप, रंग आदि में परिवर्तन, विकृति, बुराई, दोष, चित्त की सद्बोध प्रवृत्ति, वासना, परिणाम, अवगुण ।
 विकारी—(सं. वि.) विकारयुक्त, बुरी वासनावाला, जिसमें उलट-फेर हुआ

हो; (पुं.) एक संवत्सर का नाम ।
 विकाल—(सं. पुं.) अतिकाल, देर ।
 विकाश—(सं. पुं.) विस्तार, बढ़ती, फैलाव, प्रकाश, आकाश, खिलना, किसी वस्तु की वृद्धि के क्रम में उसके रूप, आकार आदि में धीरे-धीरे परिवर्तन होना ।
 विकाशक—(सं. वि.) विकाश करनेवाला ।
 विकाशन—(सं. पुं.) विकाश, खिलना ।
 विकाशी—(सं. वि.) विकाश करनेवाला ।
 विकास—(सं. पुं.) विस्तार, फैलाव, पुष्प आदि का खिलना, क्रमशः उन्नति करना ।
 विकासन—(सं. पुं.) प्रकाशन, प्रदर्शन ।
 विकासना—(हिं. क्रि. अ., स.) प्रकट करना, विकसित करना, विकसना, खिलना ।
 विकिर—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, कुआँ ।
 विकिरण—(सं. पुं.) रश्मियों का छितराना ।
 विकीर्ण—(सं. वि.) प्रसिद्ध, चारों ओर फैला हुआ; (पुं.) स्वर के उच्चारण का एक दोष ।
 विकुंठ—(सं. पुं.) देखें 'वैकुंठ', स्वर्ग ।
 विकुंठन—(सं. पुं.) दुर्बलता ।
 विकुंडल—(सं. वि.) कुंडलरहित ।
 विकुक्षि—(सं. वि.) तोड़वाला ।
 विकुत्सा—(सं. स्त्री.) अत्यधिक निन्दा ।
 विकुवित—(सं. पुं.) विभिन्न रूप धारण करना ।
 विकूजन—(सं. पुं.) पक्षियों का शब्द करना ।
 विकूबर—(सं. वि.) सुन्दर, मनोहर ।
 विकृत्—(सं. वि.) विगड़ा हुआ, कुरूप, मट्टा, जिसमें किसी प्रकार का विकार आ गया हो, अपूर्ण, अधूरा, असाधारण, विचित्र, रोगी, विद्रोही; (पुं.) एक संवत्सर का नाम; -दृष्टि—(पुं.) तिरछी दृष्टिवाला, ऐंजाताना; -स्वर—(पुं.) संगीत में वह स्वर जो अपने नियत स्थान से हटकर दूसरी जगह ठहरता हो ।
 विकृति—(सं. स्त्री.) विकार, विगाड़, मन का क्षोभ, शत्रुता, परिवर्तन, उन्नति, तेईस वर्णों के एक वृत्त का नाम ।
 विकृष्ट—(सं. वि.) आकृष्ट, खींचा हुआ ।
 विकेशी—(सं. स्त्री.) पृथ्वी, पूतना नामक राक्षसी ।
 विक्रम—(सं. पुं.) विष्णु, बल या शक्ति की अधिकता, पराक्रम, गति, ढंग, एक संवत्सर का नाम, राजा विक्रमादित्य ।
 विक्रमण—(सं. पुं.) पादविक्षेप, चलना ।
 विक्रमाजीत—(हिं. पुं.) विक्रमादित्य ।
 विक्रमादित्य—(सं. पुं.) उज्जयिनी के एक प्राचीन प्रसिद्ध राजा का नाम, (ये बड़े विद्याप्रेमी, उदार और गुणग्राहक थे ।

ऐसा विश्वास है कि विक्रम संवत् इन्हीं का चलाया हुआ है ।)
 विक्रमाब्द—(सं. पुं.) विक्रमादित्य का चलाया हुआ संवत् ।
 विक्रमी—(हिं. वि.) वीर, पराक्रमी; (पुं.) विष्णु, सिंह ।
 विक्रय—(सं. पुं.) बेचने का कार्य, विक्री; -क—(पुं.) विक्रेता, बेचनेवाला; -ण—(पुं.) विक्री; -पत्र—(पुं.) विक्री का पर्चा या चिट्ठा ।
 विक्रयी—(सं. पुं.) बेचनेवाला ।
 विक्रांत—(सं. वि.) तेजस्वी, प्रतापी, शूरवीर; (पुं.) चलने का ढंग, साहस; एक प्रजापति का नाम, हिरण्यक्ष के एक पुत्र का नाम ।
 विक्रांता—(सं. स्त्री.) हंसपदी लता, अड़हूला ।
 विक्रांति—(सं. स्त्री.) शूरता, वीरता, घोड़े की एक चाल ।
 विक्रायक—(सं. वि.) बेचनेवाला, विक्रेता ।
 विक्रियोपमा—(सं. स्त्री.) वह उपमालंकार जिसमें किसी विशिष्ट क्रिया का वर्णन होता है ।
 विक्री—(हिं. स्त्री.) बेचने की क्रिया या भाव, विक्री ।
 विक्रीत—(सं. वि.) बेचा हुआ ।
 विक्रेता—(सं. पुं.) बेचने या विक्री करनेवाला ।
 विक्रैय—(सं. वि.) विकनेवाला, विकने योग्य ।
 विक्लिष्ट—(सं. वि.) बहुत थका हुआ, क्षतिग्रस्त ।
 विक्लेद—(सं. पुं.) आद्रता, गीलापन ।
 विक्लेश—(सं. पुं.) बड़ा कष्ट ।
 विक्लत—(सं. वि.) बुरी तरह से घायल ।
 विक्लाव—(सं. पुं.) शब्द, ध्वनि ।
 विक्षिप्त—(सं. वि.) फेंका हुआ, छितराया हुआ, व्याकुल, पागल; (पुं.) योग में चित्तवृत्ति का अस्थिर होना; -ता—(स्त्री.) पागलपन ।
 विक्षुब्ध—(सं. वि.) जिसका मन अशांत या चंचल हो ।
 विक्षप—(सं. पुं.) इधर-उधर फेंकना या छितराना, चित्त को इधर-उधर भटकाना, एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र, बाधा, विघ्न, एक प्रकार का रोग, धनुष की डोरी चढ़ाना ।
 विक्षेपण—(सं. पुं.) इधर-उधर फेंकने का काम, चित्त की उद्विग्नता ।
 विक्षोभण—(सं. पुं.) क्षोभ, हिलाना, फाड़ना ।
 विक्षोभी—(सं. वि.) क्षोभ या दुःख उत्पन्न करनेवाला ।

विखंडी-(सं.वि.) खंड या टुकड़े करने-वाला ।

विख-(हि.पुं.) 'देखें 'विष' ।

विखनन-(सं.पुं.) खोदने का काम ।

विखनस्-(सं.पुं.) ब्रह्मा ।

विखहा-(हि.पुं.) विपहा ।

विखादितक-(सं.पुं.) पशुओं द्वारा खाया हुआ शव ।

विखान-(हि.पुं.) देखें 'विषाण', सींग ।

विखानस-(सं.पुं.) एक मुनि ।

विखाना-(सं.स्त्री.) जिह्वा, जीभ ।

विखायध्व-(हि.स्त्री.) कड़वी गन्ध ।

विख्यात-(सं.वि.) प्रसिद्ध ।

विख्याति-(सं.स्त्री.) विख्यात होने का भाव, प्रसिद्धि ।

विगंध-(सं.वि.) दुर्गन्ध, गन्धहीन, जिसमें किसी प्रकार की गन्ध न हो ।

विगणन-(सं.पुं.) हिसाब करना, लेखा करना ।

विगत-(सं.वि.) जो बीत गया हो, पहले का, जो चला गया हो, बिना प्रभा का, रहित; -भय-(वि.) निर्भीक, निडर;

-शोक-(वि.) शोकरहित; -श्री-(वि.) श्रीरहित; -स्पृह-(वि.) देखें 'निःस्पृह' ।

विगता-(सं.स्त्री.) वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती हो ।

विगति-(सं.स्त्री.) दुर्गति, दुर्दशा ।

विगम-(सं.पुं.) अन्त, नाश, मृत्यु ।

विगर्भा-(सं.स्त्री.) वह स्त्री जिसका गर्भपात हुआ हो ।

विगर्हण-(सं.पुं.) निन्दा ।

विगर्हणा-(सं.स्त्री.) निन्दा, डांट-डपट, धिक्कार ।

विगर्हित-(सं.वि.) निन्दनीय, जिसको डांट-फटकार सुनाई गई हो ।

विगर्ही-(सं.वि.) निन्दाकारक ।

विगलन-(सं.पुं.) नाश ।

विगलित-(सं.वि.) जो गिर गया हो, जो ढीला पड़ गया हो, विगड़ा हुआ, शिथिल ।

विगाया-(सं.स्त्री.) आर्या छन्द का एक भेद, (इसका दूसरा नाम उद्गीति है ।)

विगाह-(सं.पुं.) अवगाहन, स्नान ।

विगाहन-(सं.पुं.) देखें 'विगाह' ।

विगाहमान-(सं.वि.) स्नान करनेवाला ।

विगाहा-(हि.स्त्री.) आर्या छन्द का एक भेद ।

विगीत-(सं.वि.) गहित, निन्दित ।

विगीति-(सं.स्त्री.) एक प्रकार का छन्द ।

विगुण-(सं.वि.) विकृत, गुणहीन; -ता-(स्त्री.) गुणहीनता ।

विगूढ-(सं.वि.) निन्दित, गुप्त ।

विगृहीत-(सं.वि.) अलग किया हुआ ।

विग्रह-(सं.पुं.) विभाग, दूर करना, ध्याकरण में योगिक शब्दों अथवा समस्त पदों को अलग करना, युद्ध, कलह, झगड़ा, आकृति, मूर्ति, शरीर, शृंगार, सजावट ।

विग्रहण-(सं.पुं.) रूप धारण करना, विभाजन ।

विग्रही-(सं.वि.) युद्ध करनेवाला, लड़ाई-झगड़ा करनेवाला ।

विघटन-(सं.पुं.) तोड़ना-फोड़ना, अलगाना ।

विघटित-(सं.वि.) तोड़ा-फोड़ा हुआ, नष्ट किया हुआ ।

विघ्न-(हि.पुं.) देखें 'विघ्न'; (सं.पुं.) एक प्रकार का बड़ा हथौड़ा ।

विघर्षण-(सं.पुं.) रगड़ना, घिसना ।

विघात-(सं.पुं.) आघात, प्रहार, चोट, नाश ।

विघातक-(सं.वि.) नाश करनेवाला, वाघक ।

विघातन-(सं.पुं.) हत्या ।

विघाती-(सं.वि.) हत्या करनेवाला, हत्यारा, आघात करनेवाला ।

विघूर्णन-(सं.पुं.) चारों ओर घुमाना, चक्कर देना ।

विघ्न-(सं.पुं.) वाघा, रूकावट, अड़चन, कठिनाई; -क, -कर-(वि.) वाघा डालनेवाला; -कारी-(वि.) विघ्न डालनेवाला; -नायक-(पुं.) गणेश;

-नाशक-(पुं.) गणेश ।

विघ्नेश-(सं.पुं.) गणेश ।

विघ्नेशवाहन-(सं.पुं.) मूषक, चूहा ।

विघ्नेश्वर-(सं.पुं.) गणेश ।

विचंद्र-(सं.वि.) चन्द्ररहित ।

विचंद्रा-(सं.स्त्री.) रात्रि, रात ।

विचकित-(सं.वि.) धवड़ाया हुआ ।

विचकिल-(सं.पुं.) दौने का पौधा, एक प्रकार की चमेली ।

विचक्षण-(सं.वि.) चमकता हुआ, निपुण, चतुर, बुद्धिमान्, पंडित, जो स्पष्ट दिखाई पड़ता हो ।

विचच्छन-(हि.वि.) देखें 'विचक्षण' ।

विचक्षु-(सं.वि.) जिसकी आँख नष्ट हो गई हो ।

विचय-(सं.पुं.) एकत्र करना, परीक्षा करना ।

विच्यपन-(सं.पुं.) इकट्ठा करना ।

विचरण-(सं.पुं.) घूमना-फिरना, चलना ।

विचरन-(हि.पुं.) विचरण ।

विचरना-(हि.क्रि.अ.) घूमना-फिरना, चलना ।

विचरनि-(हि.स्त्री.) चलने-फिरने की क्रिया ।

विचल-(सं.वि.) अस्थिर, हिलता-डोलता हुआ, डिगा हुआ, हटा हुआ; -ता-(स्त्री.) अस्थिरता, चंचलता ।

विचलना-(हि.क्रि.अ.) अपने स्थान से हट जाना, अधीर होना, प्रतिज्ञा से डिगना ।

विचलाना-(हि.क्रि.स.) विचलित करना, इधर-उधर हटाना ।

विचलित-(सं.वि.) अस्थिर, चंचल, डिगा हुआ, अपनी प्रतिज्ञा से डिगा हुआ ।

विचार-(सं.पुं.) मन में उत्पन्न होनेवाली बात, भाव आदि, भावना, न्यायालय का वादी-प्रतिवादी के मुकदमे का निर्णय; -क-(पुं.) विचार करनेवाला, न्यायाधीश, नेता, जासूस; -ज्ञ-(पुं.) निर्णय करनेवाला; -ण-(पुं.) विचार, मीमांसा; -णा-(स्त्री.) विचार करने की क्रिया या भाव; -णीय-(वि.) विचार करने योग्य; -पति-(पुं.) न्यायाधीश;

-चान्-(वि.) जिसमें विचारने की शक्ति हो, विचारशील; -शक्ति-(स्त्री.) भला-बुरा समझने की शक्ति; -शास्त्र-(पुं.) मीमांसा-शास्त्र; -शील-(वि.) देखें 'विचारवान्'; -०ता-(स्त्री.) बुद्धिमानी; -स्थल-(पुं.) न्यायालय, न्यायस्थल ।

विचारना-(हि.क्रि.स.) सोचना, समझना, हँदना, पता लगाना ।

विचाराध्यक्ष-(सं.पुं.) न्यायाधीश ।

विचारालय-(सं.पुं.) न्यायालय, विचार-स्थल ।

विचारित-(सं.वि.) सोचा-विचारा हुआ ।

विचारी-(सं.वि.,पुं.) विचरण करनेवाला, इधर-उधर घूमनेवाला, विचार करनेवाला, कवन्व के एक पुत्र का नाम ।

विचार्य-(सं.वि.) विचारणीय, विचार करने योग्य; -वाण-(वि.) विचार करने योग्य ।

विचालन-(सं.पुं.) नष्ट करना, हटाना, चलाना ।

विचिंतन-(सं.पुं.) चिन्ता करना, सोचना ।

विचिंतनीय-(सं.वि.) सोचने योग्य ।

विचिता—(सं. स्त्री.) सोच-विचार ।
 विचिन्तित—(सं. वि.) सोचा-विचारा हुआ ।
 विचिन्त्य—(सं. वि.) विचार करने योग्य, जिसमें किसी प्रकार का सन्देह हो ।
 विचिन्त्यमान—(सं. वि.) विचार किया हुआ ।
 विचिकित्सा—(सं. स्त्री.) अनिश्चय, सन्देह ।
 विचित—(सं. वि.) जिसका अनुसंधान किया गया हो ।
 विचिन्ति—(सं. स्त्री.) अनुसंधान ।
 विचिन्ति—(सं. पुं.) चित्त ठिकाने न रहने की अवस्था ।
 विचित्र—(सं. वि.) अनेक रंगों का, विलक्षण, असाधारण, चकित करने-वाला, रमणीय, सुन्दर; (पुं.) वह अलंकार जिसमें किसी फल की सिद्धि के लिये किसी विपरीत प्रयत्न का वर्णन रहता है; -ता—(स्त्री.) विलक्षणता, अद्भुत होने का भाव; -देह—(पुं.) मेघ, बादल; -वीर्य—(पुं.) चन्द्रवंशी राजा शान्तनु के पुत्र का नाम; -शाला—(स्त्री.) अजायवधर ।
 विचित्रा—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 विचित्रित—(सं. वि.) रंग-विरंगा ।
 विचूर्णन—(सं. पुं.) बूकनी करना ।
 विचूर्णित—(सं. वि.) वारीक चूर्ण किया हुआ ।
 विचेतन—(सं. वि.) अचेत ।
 विचेता—(सं. वि.) व्यग्र, धवड़ाया हुआ ।
 विचेष्टन—(सं. पुं.) इधर-उधर लोटना, तड़पना ।
 विचेष्टा—(सं. स्त्री.) प्रयत्न, कुचेष्टा ।
 विचेष्टित—(सं. वि.) जिसके लिए प्रयत्न किया गया हो; (पुं.) क्रिया, व्यापार ।
 विच्छन्द—(सं. पुं.) देवालय, मन्दिर ।
 विच्छिन्ति—(सं. स्त्री.) काटकर टुकड़े अलगाना, टुटि, कमी, अलगाव, एक प्रकार का हार, साहित्य में वह हाव जिसमें नायिका थोड़े ही शृंगार से पुरुष को मोहित करने का प्रयत्न करती है ।
 विच्छिन्न—(सं. वि.) विभक्त, काटकर अलगया हुआ, पृथक्, अलग, जिसका अन्त किया जा चुका हो ।
 विच्छेद—(सं. पुं.) विरह, वियोग, नाश, काटने या अलगाने की क्रिया, क्रम का बीच में खंडित होना; टुकड़े-टुकड़े करना, बीच में पड़नेवाला खाली स्थान, कविता में यति ।
 विच्छेदक—(सं. वि., पुं.) काटकर अलग करनेवाला, विभाजक ।

विच्छेदन—(सं. पुं.) अलग करने की क्रिया, नाश ।
 विच्छेदनीय—(सं. वि.) काटकर अलगाने योग्य, विभागा करने योग्य ।
 विच्छेदी—(सं. वि.) काटनेवाला ।
 विच्छेद्य—(सं. वि.) विच्छेदनीय ।
 विच्युत—(सं. वि.) अपने स्थान से गिरा या हटा हुआ ।
 विछलना—(हिं. क्रि. अ.) विचलित होना, फिसलना ।
 विछेद—(हिं. पुं.) वियोग, विछोह, प्रिय से अलग होना ।
 विछोई—(हिं. विं.) जिसका अपने प्रिय से वियोग हुआ हो, वियोगी ।
 विछोह—(हिं. पुं.) वियोग, प्रिय से अलग होना ।
 विजंघ—(सं. वि.) विना जाँघ का ।
 विजई—(हिं. वि., पुं.) देखें 'विजयी' ।
 विजन—(सं. वि.) जनशून्य, एकान्त; (पुं.) निर्जन स्थान, पंखा, वेना; -ता—(स्त्री.) एकान्तता ।
 विजनन—(सं. पुं.) जनन करने की क्रिया, प्रसव ।
 विजना—(हिं. पुं.) पंखा, वेना ।
 विजन्मा—(सं. पुं.) किसी स्त्री का उसके उपपति से जनमा हुआ पुत्र, जारज, दोगला ।
 विजयंती—(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम ।
 विजय—(सं. स्त्री.) जय, जीत; (पुं.) सवैया छन्द का एक भेद; -कटक—(पुं.) विजय में विघ्न डालनेवाला; -क—(वि.) सर्वदा जीतनेवाला; -कुंजर—(पुं.) राजा की सवारी का हाथी; -केतु—(पुं.) विजय-पताका; -डिंडिम—(पुं.) लड़ाई में बजाने का एक प्राचीन नगाड़ा; -पताका—(स्त्री.) वह झंडा जो सेना के विजय प्राप्त करने पर फहराया जाता है; -पूर्णमा—(स्त्री.) आश्विन की पूर्णिमा; -यात्रा—(स्त्री.) वह यात्रा जो विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाय; -लक्ष्मी—(स्त्री.) विजय की अविष्ठात्री देवी; -श्री—(स्त्री.) विजयलक्ष्मी; -सार—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसकी लकड़ी अनेक इमारती कामों में लगती है ।
 विजया—(सं. स्त्री.) दुर्गा, यम की भार्या का नाम, भांग, एक ओपधि, मजीठ, श्रीकृष्ण की माला का नाम, एक योगिनी

का नाम, एक मात्रिक छन्द का नाम; -एकादशी—(स्त्री.) आश्विन शुक्ला एकादशी; -दशमी—(स्त्री.) आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी जो हिन्दुओं का बहुत बड़ा त्योहार होता है ।
 विजयानंद—(सं. पुं.) संगीत के एक ताल का नाम ।
 विजयी—(सं. वि., पुं.) (वह) जिसने विजय प्राप्त की हो, जीतनेवाला, अर्जुन का एक नाम ।
 विजयेश—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 विजयोत्सव—(सं. पुं.) विजया-दशमी को होनेवाला उत्सव ।
 विजर—(सं. वि.) जरारहित, जिसको बुढ़ापाने न ग्रसे ।
 विजर्जर—(सं. वि.) अत्यन्त जर्जर ।
 विजल—(सं. पुं.) वर्षा न होना, सूखा पड़ना ।
 विजल्प—(सं. पुं.) व्यर्थ बात, वक्तावाद ।
 विजाग—(हिं. पुं.) वियोग ।
 विजागी—(हिं. वि., पुं.) वियोगी ।
 विजात—(सं. वि.) वर्णसंकर, दोगला ।
 विजाता—(सं. स्त्री.) जिस स्त्री को हाल में बच्चा हुआ हो ।
 विजाति—(सं. वि.) भिन्न जाति का ।
 विजातीय—(सं. वि.) जो भिन्न जाति का हो ।
 विजानु—(सं. पुं.) तलवार चलाने के बत्तीस हाथों में से एक ।
 विजार—(हिं. पुं.) एक प्रकार की मटिया भूमि ।
 विजारत—(अ. स्त्री.) मंत्री का पद, कार्य-भार आदि ।
 विजिगीषा—(सं. पुं.) विजय प्राप्त करने की अभिलाषा, उत्कर्ष, उन्नति ।
 विजित—(सं. वि.) जीता हुआ; (पुं.) जीता हुआ प्रदेश ।
 विजितात्मा—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 विजितावध—(सं. पुं.) राजा पृथु के एक पुत्र का नाम ।
 विजिति—(सं. स्त्री.) विजय, जीत ।
 विजित्वर—(सं. पुं.) जीतनेवाला ।
 विजिहीर्षा—(सं. स्त्री.) विहार करने की इच्छा ।
 विजिह्व—(सं. वि.) बक्र, कुटिल ।
 विजीप—(सं. वि.) जिसको विजय प्राप्त करने की अभिलाषा हो ।
 विजुंभण—(सं. पुं.) जैमाई लेना, नाँह सिकोड़ना ।
 विजुंभा—(सं. स्त्री.) जैमाई ।

विजृम्भित—(सं. वि.) व्याप्त, विकसित ।
विजृम्भितव्य—(सं. वि.) जो जीतने योग्य हो ।

विजेता—(सं. पुं.) विजय करनेवाला, जीतनेवाला ।

विजेय—(सं. वि.) जीते जाने योग्य ।

विजै—(हिं. स्त्री.) देखें 'विजय';—सार—
(पुं.) देखें 'विजयसार' ।

विजोहा—(हिं. पुं.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में ६ अक्षर होते हैं, (इसको विमोहा भी कहते हैं) ।

विज्जू—(हिं. स्त्री.) विद्युत्, विजली ।

विज्जुल—(हिं. पुं.) त्वचा, छिलका ।

विज्जुलता—(हिं. स्त्री.) विद्युलता, विजली ।

विज्जोहा—(हिं. पुं.) देखें 'विजोहा' ।

विज्ञ—(सं. वि., पुं.) बुद्धिमान्, पण्डित, विद्वान्;—ता—(स्त्री.) पाण्डित्य, बुद्धिमानी ।

विज्ञात—(सं. वि.) सूचित किया हुआ, बतलाया हुआ ।

विज्ञापित—(सं. स्त्री.) विज्ञापन ।

विज्ञात—(सं. वि.) प्रसिद्ध ।

विज्ञातव्य—(सं. वि.) जानने योग्य ।

विज्ञाता—(सं. पुं.) जाननेवाला ।

विज्ञान—(सं. पुं.) ज्ञान, किसी विषय के सिद्धान्तों का विशेष रूप से विवेचित ज्ञान, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान, कार्य में कुशलता, ब्रह्म, आत्मा, आकाश, मोक्ष, निश्चयात्मक बुद्धि;—कोश—
(पुं.) वेदान्त के अनुसार ज्ञानेन्द्रियाँ और बुद्धि;—ता—(स्त्री.) विज्ञान का अवलंबन;—पति—(पुं.) परम ज्ञानी;—पाद—(पुं.) वेदव्यास का एक नाम;—मयकोप—(पुं.) बुद्धि तथा ज्ञानेन्द्रियों का समूह;—वाद—(पुं.) वह सिद्धांत जिसमें ब्रह्म और आत्मा की एकता मानी जाती है, विज्ञान के उत्कष का समर्थन;—वादी—(पुं.) विज्ञानवाद का अनुयायी ।

विज्ञानिक—(सं. वि., पुं.) देखें 'वैज्ञानिक' ।

विज्ञानी—(सं. पुं.) वह जिसको किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो, वैज्ञानिक ।

विज्ञापक—(सं. पुं.) समझाने या बतलाने-वाला, विज्ञापन करनेवाला ।

विज्ञापन—(सं. पुं.) किसी बात को जताने की क्रिया, सूचना देना, वह पत्र जिसके द्वारा कोई बात सूचित की जाती है ।

विज्ञापित—(सं. वि.) जिसका विज्ञापन किया गया हो ।

विज्ञेय—(सं. वि.) जानने या समझने योग्य ।

विटंक—(सं. पुं.) कबूतर का दरवा; (वि.) सुन्दर ।

विट—(सं. पुं.) लम्पट, कामुक, धूर्त, चतुर, वह व्यक्ति जो अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति भोगविलास में नष्ट कर चुका हो, नायक का सखा जो बड़ा धूर्त और बात बनाने में निपुण हो, चूहा, नारंगी का वृक्ष, सोंचर लवण ।

विटप—(सं. पुं.) वृक्ष या लता की नई शाखा, झाड़ी, कोपल, वृक्ष, पादप, पेड़ ।

विटपी—(सं. पुं.) वृक्ष, पेड़;—मृग—
(पुं.) बंदर ।

विटलवण—(सं. पुं.) सोंचर नमक ।

विट्ठल—(हिं. पुं.) दक्षिण भारत की विष्णु की एक प्रसिद्ध मूर्ति का नाम ।

विडंबक—(सं. पुं.) ठीक-ठीक अनुकरण करनेवाला, चिढ़ानेवाला ।

विडंबन—(सं. पुं.) निन्दा या उपहास करना, नकल उतारना ।

विडंबना—(सं. स्त्री.) अनुकरण करना, हँसी उड़ाना, चिढ़ाना ।

विडंबनीय—(सं. वि.) अनुकरण करने योग्य, चिढ़ाने लायक ।

विडंबित—(सं. वि.) उपहास किया हुआ, ठगा हुआ ।

विडंबी—(सं. पुं.) विडंबना करनेवाला ।

विडरना—(हिं. क्रि. अ.) इधर-उधर या तितर-वितर होना, दौड़ना, भागना ।

विडराना, विडराना—(हिं. क्रि. अ., स.) छितराना, इधर-उधर करना, नष्ट करना, दौड़ना, भागना ।

विडाल—(सं. पुं.) आँख का पिण्ड, मार्जार, विल्ली, हरताल ।

विडौजा—(सं. पुं.) इन्द्र का एक नाम ।

विडग्रह—(सं. पुं.) मल का अवरोध ।

विडज—(सं. वि., पुं.) विष्ठा आदि में उत्पन्न होनेवाले (कीड़े) ।

विडबंध—(सं. पुं.) मल का अवरोध ।

विडभंग—(सं. पुं.) बहुत शीघ्र होना ।

विडभेदी—(सं. वि., पुं.) विरेचक (औषध) ।

वितंड—(सं. पुं.) गज, हाथी ।

वितंडा—(सं. स्त्री.) दूसरे के पक्ष को दवाकर अपने पक्ष की स्थापना, व्यर्थ लड़ाई-झगड़ा ।

वितंड—(हिं. पुं.) एक प्रकार का विना तार का बाजा ।

वित—(हिं. वि.) चतुर, ज्ञाता, निपुण ।

वितत—(सं. वि.) विस्तृत, फैला हुआ ।

वितताना—(हिं. क्रि. अ.) व्याकुल होना ।

वितति—(सं. स्त्री.) विस्तार, फैलाव ।

वितथ—(सं. वि.) मिथ्या, झूठ, निरर्थक ।

वितद्गु—(सं. पुं.) पंजाब की झेलम नदी का प्राचीन नाम ।

वितनु—(सं. वि.) अति सूक्ष्म, शरीर-रहित ।

वितपन्न—(हिं. वि.) व्युत्पन्न, दक्ष, प्रवीण ।

वितरक—(सं. वि.) बाँटनेवाला ।

वितरण—(सं. पुं.) अर्पण करना, देना, बाँटना ।

वितरन—(हिं. पुं.) वितरण ।

वितरना—(हिं. क्रि. स.) वितरण करना ।

वितरिक्त—(हिं. अव्य.) व्यतिरिक्त, अतिरिक्त, सिवाय ।

वितरित—(सं. वि.) बाँटा हुआ ।

वितरेक—(हिं. अव्य.) व्यतिरिक्त, अतिरिक्त, सिवाय ।

वितर्क—(सं. पुं.) तर्क, दलील, सन्देह, अनुमान, वह अर्थालंकार जिसमें किसी प्रकार के सन्देह का उल्लेख रहता है और जिसका निर्णय नहीं हो पाता ।

वितदय—(सं. वि.) अति विलक्षण, तर्क के योग्य ।

वितल—(सं. पुं.) सात पातालों में से तीसरा पाताल ।

वितस्ता—(सं. स्त्री.) पंजाब की झेलम नदी का प्राचीन नाम ।

वितस्ति—(सं. पुं.) वित्ता, बारह अंगुल का माप ।

वितान—(सं. पुं.) विस्तार, फैलाव, बड़ा चंदवा, समूह, अवकाश, घूणा, एक प्रकार का छन्द, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में आठ अक्षर होते हैं ।

वितानक—(सं. पुं.) बड़ा चंदवा, समूह, जमघट ।

वितानना—(हिं. क्रि. स.) चंदवा आदि तानना ।

वितामस—(सं. पुं.) प्रकाश, उजाला ।

वितिक्रम—(हिं. पुं.) देखें 'व्यतिक्रम' ।

वितिभिर—(सं. वि.) अन्वकारशून्य ।

वितीत—(हिं. वि.) देखें 'व्यतीत', बीता हुआ ।

वितुंड—(हिं. पुं.) गज, हाथी ।

वितु—(हिं. पुं.) वित्त, धन, सम्पत्ति ।

वितुष्ट—(सं. वि.) असन्तुष्ट ।

वितृष्ण—(सं. वि.) तृष्णहीन ।

वितृप्त—(सं. वि.) जो तृप्त हो ।

वितृष्ण—(सं. वि.) तृष्णा से रहित ।

वितृष्णता—(सं. स्त्री.) निस्पृहता ।
 वितृष्णा—(सं. स्त्री.) तृष्णा का अभाव ।
 वितोय—(सं. वि.) जलहीन ।
 वित्त—(सं. पुं.) सम्पत्ति, धन; (वि.) जाना हुआ, समझा हुआ, विख्यात, प्रसिद्ध;—कोश—(पुं.) रुपया-पैसा रखने की थैली;—दा—(स्त्री.) कातिकेय की एक मातृका का नाम;—पति—(पुं.) कुवेर;—पुरी—(स्त्री.) कुवेर की नगरी;—हीन—(वि.) धनहीन, दरिद्र ।
 वित्तेश, वित्तेश्वर—(सं. पुं.) कुवेर ।
 वित्रप—(सं. वि.) निर्लज्ज ।
 वित्रस्त—(सं. वि.) बहुत डरा हुआ ।
 वित्रास—(सं. पुं.) भय, डर ।
 वियकना—(हिं. क्रि. अ.) शिथिल होना, मोहित होकर चुप हो जाना ।
 वियकित—(हिं. वि.) शिथिल, थका हुआ, जो आश्चर्य या मोह के कारण चुप हो गया हो ।
 विथराना—(हिं. क्रि. अ.) इधर-उधर छितराना ।
 विथा—(हिं. स्त्री.) व्यथा, पीड़ा, रोग ।
 विथारना—(हिं. क्रि. स.) छितराना, फैलाना ।
 विथित—(हिं. वि.) व्यथित, पीड़ायुक्त, दुःखी ।
 विथुरा—(हिं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका उसके स्वामी से वियोग हुआ हो ।
 विथ्या—(सं. स्त्री.) गोभी ।
 विदक्षिण—(सं. वि.) दक्षिणारहित ।
 विदग्ध—(सं. पुं.) रसिक मनुष्य, विद्वान्, पण्डित, चतुर; (वि.) जला हुआ;—ता—(स्त्री.) पाण्डित्य, चतुराई ।
 विदग्धा—(सं. स्त्री.) वह परकीया नायिका जो बड़ी चतुराई से परपुरुष को अपनी ओर अनुरक्त करती है ।
 विदमान—(हिं. वि., अव्य.) विद्यमान, सम्मुख ।
 विदरण—(सं. पुं.) विदारण करना, फाड़ना ।
 विदरना—(हिं. क्रि. अ.) विदीर्ण होना, फटना ।
 विदर्भ—(सं. पुं.) वरार देश का प्राचीन नाम, एक प्राचीन राजा का नाम जिसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा था, मसूदा फूलने का रोग;—जा—(स्त्री.) दमयन्ती;—राज—(पुं.) दमयन्ती के पिता भीष्म जो विदर्भ के राजा थे ।
 विदल—(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना, अनार

का दाना, वाँस का बना हुआ कोई पात्र; (वि.) जिसमें दल न हो, बिना दल का ।
 विदलन—(सं. पुं.) मलने या दलने की क्रिया, टुकड़े करना, फाड़ना ।
 विदलना—(हिं. क्रि. स.) नष्ट करना, फाड़ना ।
 विदलित—(सं. वि.) फाड़ा हुआ, टुकड़े किया हुआ, रौंदा हुआ, मला हुआ ।
 विदा—(हिं. स्त्री.) प्रस्थान, कहीं जाने की आज्ञा, विदाई ।
 विदाई—(हिं. स्त्री.) प्रस्थान, विदा होने की अनुमति ।
 विदाय—(सं. पुं.) विसर्जन, प्रस्थान ।
 विदार—(सं. पुं.) समर, युद्ध ।
 विदारक—(सं. पुं.) जल के बीच का वृक्ष या पर्वत; (वि.) फाड़नेवाला ।
 विदारण—(सं. पुं.) फाड़ना, मार डालना, हत्या करना, समर, युद्ध, लड़ाई ।
 विदारना—(हिं. क्रि. स.) फाड़ना, फाड़कर अलग-अलग या टुकड़े करना ।
 विदारित—(सं. वि.) विदीर्ण, फाड़ा हुआ ।
 विदारी—(सं. वि.) विदीर्ण करनेवाला, फाड़नेवाला ।
 विदारीकंद—(सं. पुं.) मूमि-कुप्मांड ।
 विदारु—(सं. पुं.) कृकलास, गिरगिट ।
 विदाह—(सं. पुं.) हाथ-पैर में होनेवाली जलन ।
 विदाही—(सं. वि., पुं.) दाह उत्पन्न करनेवाला (पदार्थ) ।
 विदित—(सं. वि.) ज्ञात, जाना हुआ ।
 विदित्य—(सं. पुं.) पण्डित, विद्वान्, योगी ।
 विदिशा—(सं. स्त्री.) वर्तमान भेगना नामक नगर का प्राचीन नाम ।
 विदिश—(सं. स्त्री.) दो दिशाओं के बीच का कोण ।
 विदोधित—(सं. वि.) किरणहीन ।
 विदीर्ण—(सं. वि.) बीच से फाड़ा हुआ, टूटा-फूटा ।
 विदुर—(सं. पुं.) पण्डित, ज्ञानी, जानकार, कौरवों के प्रसिद्ध मन्त्री जो नीति में बड़े चतुर थे ।
 विदुल—(सं. पुं.) जलवैत, एक प्रकार का गन्व-द्रव्य ।
 विदुष—(सं. पुं.) विद्वान्, पण्डित ।
 विदुषी—(सं. स्त्री.) शिक्षित स्त्री, विद्वान् स्त्री ।
 विदूर—(सं. वि.) जो बहुत दूर हो; (पुं.) एक पहाड़ जहाँ वैदूर्य मणि मिलता है ।

विदूरत्व—(सं. पुं.) बहुत दूर होना ।
 विदूषक—(सं. पुं.) कामुक, लंपट, वातचीत करके दूसरों को हँसानेवाला, माँड़, दूसरों को निन्दा करनेवाला, खल, दुष्ट, वह नायक जो अपने परिहास तथा कौतुक आदि के कारण कामकेल में सहायक होता है ।
 विदूषण—(सं. पुं.) दोष लगाना, निन्दा करना ।
 विदूषना—(हिं. क्रि. अ., स.) कष्ट देना, दोषी ठहराना, दुःखी होना ।
 विदेव—(सं. पुं.) राक्षस, यक्ष ।
 विदेश—(सं. पुं.) अपने देश के अतिरिक्त दूसरा देश, परदेश ।
 विदेशी—(हिं. वि.), विदेशीय—(सं. वि.) परदेशी, विदेश-संबंधी ।
 विदेह—(सं. वि., पुं.) (वह) जो शरीररहित हो, राजा जनक का एक नाम;—त्व—(पुं.) शरीर का नाश, मृत्यु;—पुर—(पुं.) राजा जनक की राजधानी, जनकपुर ।
 विदोष—(सं. वि.) दोषरहित ।
 विद्ध—(सं. वि.) छेदा हुआ, फेंका हुआ, बाधित, तुल्य, समान, वक्र, टेढ़ा, मिला हुआ ।
 विद्यमान—(सं. वि.) वर्तमान, उपस्थित;—ता—(स्त्री.),—त्व—(पुं.) उपस्थिति ।
 विद्या—(सं. स्त्री.) शिक्षा आदि द्वारा उपार्जित ज्ञान, किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, दुर्गा, सीता की एक सखी का नाम, आर्या छन्द का एक भेद;—गुरु—(पुं.) पढ़ानेवाला, शिक्षक;—गृह—(पुं.) विद्यालय, पाठशाला;—दाता—(पुं.) विद्या पढ़ानेवाला, गुरु;—दान—(पुं.) विद्या पढ़ाना, शिक्षा देना;—देवी—(स्त्री.) सरस्वती;—धन—(पुं.) विद्यारूपी धन;—वर—(पुं.) एक प्रकार की देवयानि जिसके अन्तर्गत गन्धर्व, किन्नर आदि माने जाते हैं, वैद्यक का एक प्रकार का यन्त्र;—वरी—(स्त्री.) विद्यावर की स्त्री, किन्नरी;—धारी—(पुं.) एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में बारह अक्षर होते हैं;—मणि—(पुं.) विद्यारूपी रत्न;—मार्ग—(पुं.) श्रेष्ठ मार्ग;—राशि—(पुं.) निव, महादेव;—दान्—(वि., पुं.) विद्वान्, पंडित;—विद्—(पुं.) विद्वान्, पंडित;—विरुद्ध—(वि.) ज्ञान के विपरीत;—वश्म—(पुं.) विद्यालय;—सागर—(वि.) सब शास्त्रों का जाननेवाला ।
 विद्यागम—(सं. पुं.) ज्ञान की प्राप्ति ।
 विद्यावार—(सं. पुं.) विद्वान्, पण्डित ।

विद्याधिप—(सं.पुं.) गुरु, शिक्षक, विद्वान् ।
विद्यारंभ—(सं.पुं.) बालकों को विद्या पढ़ाना प्रारम्भ करने का संस्कार ।

विद्यार्थी—(सं.पुं.) विद्या पढ़नेवाला, छात्र, शिष्य ।

विद्यालय—(सं.पुं.) वह स्थान जहाँ विद्या पढ़ाई जाती है, पाठशाला ।

विद्युता—(सं. स्त्री.) विद्युत्, विजली, एक अप्सरा का नाम ।

विद्युताक्ष—(सं.पुं.) कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम ।

विद्युत्—(सं. स्त्री.) वज्र, विजली; -केश—(पुं.) एक राक्षस; -पात—(पुं.) वज्र-पात, विजली का गिरना; -पुंज—(पुं.) विद्युन्माला; -प्रभ—(वि.) विजली के समान चमकवाला; -प्रिय—(पुं.) काँसा, काँसे का पात्र ।

विद्युद्गोरी—(सं. स्त्री.) शक्ति की एक मूर्ति का नाम ।

विद्युन्मापक—(सं.पुं.) वह यन्त्र जिसके द्वारा विजली का बल, प्रवाह आदि मापा जाता है ।

विद्युन्माला—(सं. स्त्री.) विजली का समूह, एक यक्षिणी का नाम, एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में आठ गुरु वर्ण होते हैं ।

विद्युन्माली—(सं.पुं.) पुराणानुसार एक राक्षस का नाम ।

विद्युल्लता—(सं. स्त्री.) विद्युत्, विजली ।

विद्युल्लेखा—(सं. स्त्री.) एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ६ अक्षर होते हैं; (इसका दूसरा नाम शोपराज है ।)

विद्येश—(सं.पुं.) शिव, महादेव ।

विद्योत्—(सं. स्त्री.) विजली ।

विद्योत्तन—(सं. वि.) दीप्तियुक्त ।

विद्योती—(सं. वि.) दीप्तिपूर्ण ।

विद्वथ—(सं. वि.) मोटा, पुष्ट ।

विद्वध—(सं. वि.) स्थूल, मोटा, पक्का ।

विद्वधि—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का पेट के भीतर का फोड़ा ।

विद्विब—(सं.पुं.) बहना, पिघलना ।

विद्विबण—(सं.पुं.) पिघलना, बहना, गलना, भागना, एक दानव का नाम ।

विद्विबणी—(सं. स्त्री.) कौवाठोंठी ।

विद्विबित—(सं.वि.) भगाया हुआ, पिघला हुआ ।

विद्विबी—(सं. वि.) भागनेवाला, पिघलनेवाला ।

विद्वित—(सं. वि.) गला हुआ, भागा हुआ ।

विद्विम—(सं.पुं.) प्रवाल, मूंगा ।

विद्विह—(सं.पुं.) द्वेष, राज्य को हानि

पहुँचानेवाला सामूहिक उपद्रव ।
विद्विही—(सं.पुं., वि.) विद्विह करनेवाला, राज्य को हानि पहुँचानेवाला ।

विद्वत्तम—(सं. वि.) विद्वानों में श्रेष्ठ ।

विद्वत्ता—(सं. स्त्री.) पाण्डित्य, पंडिताई ।

विद्वत्त्व—(सं.पुं.) देखें 'विद्वत्ता', पांडित्य ।

विद्वान्—(सं.वि.,पुं.) (वह) जो आत्मा के स्वरूप को समझता हो, (वह) जो किसी विद्या या शास्त्र का जानकार हो, पण्डित, सर्वज्ञ ।

विद्विष्—(सं.पुं.) शत्रु, वैरी ।

विद्विष्ट—(सं. वि.) जिसके साथ शत्रुता या द्वेष हो ।

विद्वेष—(सं.पुं.) शत्रुता ।

विद्वेषण—(सं.पुं.) शत्रुता, वैर ।

विद्वेषिता—(सं. स्त्री.) शत्रुता ।

विद्वेषी, विद्वेषक—(सं. वि.,पुं.) शत्रुता करनेवाला, वैरी ।

विधंस—(हिं.पुं.) विध्वंस, नाश ।

विधंसना—(हिं. क्रि. स.) नाश करना ।

विध—(हिं.पुं.) विधि, ब्रह्मा ।

विधत्री—(सं. स्त्री.) ब्रह्मा की शक्ति ।

विधन—(सं. वि.) निर्धन; -त्ता—(स्त्री.) निर्धनता ।

विधना—(हिं. क्रि. स.) फँसाना, बेधना; (हिं. स्त्री.) भवितव्यता, होनेवाली बात; (हिं.पुं.) विधि, ब्रह्मा ।

विधर—(हिं. अव्य.) देखें 'उधर', उस ओर ।

विधरण—(सं.पुं.) रोकना, पकड़ना ।

विधर्म—(सं.पुं.) वह धर्म जो अपना न हो, पराये का धर्म; (वि.) गुणहीन ।

विधर्मिक, विधर्मी—(सं.वि.,पुं.) (वह) जो किसी दूसरे धर्म का अनुयायी है ।

विधवा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, राँड़, बेवा; -पन—(हिं.पुं.) रँड़ापा, वैधव्य ।

विधवाश्रम—(सं.पुं.) वह स्थान जहाँ निराश्रय विधवाओं के पालन-पोषण आदि का प्रबन्ध रहता है ।

विधौंसना—(हिं. क्रि. स.) नष्ट करना, इधर-उधर करना ।

विधातव्य—(सं. वि.) कर्त्तव्य, करने योग्य ।

विधाता—(सं.पुं.) रचनेवाला, बनानेवाला, व्यवस्था करनेवाला, प्रबन्ध करनेवाला, जगत् की रचना करनेवाला ।

विधात्री—(सं. स्त्री.) विधान करनेवाली ।

विधान—(सं.पुं.) किसी कार्य का आयोजन, अनुष्ठान, विन्यास, प्रबन्ध,

विधि, पद्धति, कानून, ढंग, उपाय, पूजा, प्रेरणा, व्यवस्था, रचना, नाटक में वह स्थान जहाँ किसी वाक्य से सुख-दुःख दोनों दरशाया जाता है ।

विधानक, विधानज्ञ—(सं.पुं., वि.) विधि या विधान जाननेवाला ।

विधानसप्तमी—(सं. स्त्री.) माघ शुक्ला सप्तमी ।

विधानी—(सं.पुं.) विधिपूर्वक कार्य करनेवाला, विधानज्ञ ।

विधायक—(सं.वि.,पुं.) विधान बनाने या रचनेवाला, प्रबन्ध करनेवाला ।

विधारण—(सं.पुं.) रोकना, बहन करना ।

विधारा—(सं. स्त्री.) एक लता जो औषधों में प्रयुक्त होती है ।

विधि—(सं. स्त्री.) कार्यक्रम, काम करने की रीति, ढंग, नियम, व्यवस्था, योजना, प्रकार, कानून, संगति, मेल, व्याकरण में क्रिया का वह रूप जिससे कोई आज्ञा दी जाती है, वह अर्थालंकार जिसमें सिद्ध विषय का दुबारा विधान किया जाता है; (पुं.) सृष्टि रचनेवाला, ब्रह्मा, विष्णु; (मुहा.)-बठना-मेल होना, अनुकूलता होना; -ज्ञ—(वि.) विधि या विधान जाननेवाला; -त्व—(पुं.) विधि का भाव या धर्म; -त्सा—(स्त्री.) विधान करने की इच्छा; -त्सु—(वि.) विधान की इच्छा करनेवाला; -दृष्ट—(वि.) शास्त्रविहित; -पत्नी, -रानी—(सं., हिं. स्त्री.) सरस्वती; -पुत्र—(पुं.) नारद; -पुर—(पुं.) ब्रह्मलोक; -पूर्वक—(अव्य.) नियम के अनुसार; -दोधित—(वि.) शास्त्रसम्मत; -लोक—(पुं.) ब्रह्मलोक; -वत्—(अव्य.) विधिपूर्वक, पद्धति के अनुसार; -वद्ध—(वि.) नियमवद्ध; -वधु—(स्त्री.) सरस्वती; -वाहन—(पुं.) हंस; -शास्त्र—(पुं.) व्यवहारशास्त्र, स्मृति-शास्त्र ।

विधिना—(हिं.पुं.) विधि, ब्रह्मा ।

विधुतुद—(सं.पुं.) चन्द्रमा को कष्ट देनेवाला राहु ।

विधु—(सं.पुं.) चन्द्रमा, वायु, कपूर, विष्णु, ब्रह्मा, आयुध; -क्रांत—(पुं.) संगीत का एक ताल; -दार—(स्त्री.) चन्द्रमा की स्त्री रोहिणी; -प्रिया—(स्त्री.) कुमुदिनी; -बंधु—(पुं.) कुमुद का फूल; -मणि—(पुं., स्त्री.) चन्द्रकान्तमणि; -मुखी—(स्त्री.) चन्द्रमुखी, सुन्दर स्त्री; -वदनी—(स्त्री.)

विधिना—(हिं.पुं.) विधि, ब्रह्मा ।

विधुतुद—(सं.पुं.) चन्द्रमा को कष्ट देनेवाला राहु ।

विधु—(सं.पुं.) चन्द्रमा, वायु, कपूर, विष्णु, ब्रह्मा, आयुध; -क्रांत—(पुं.) संगीत का एक ताल; -दार—(स्त्री.) चन्द्रमा की स्त्री रोहिणी; -प्रिया—(स्त्री.) कुमुदिनी; -बंधु—(पुं.) कुमुद का फूल; -मणि—(पुं., स्त्री.) चन्द्रकान्तमणि; -मुखी—(स्त्री.) चन्द्रमुखी, सुन्दर स्त्री; -वदनी—(स्त्री.)

विधिना—(हिं.पुं.) विधि, ब्रह्मा ।

विधुतुद—(सं.पुं.) चन्द्रमा को कष्ट देनेवाला राहु ।

विधु—(सं.पुं.) चन्द्रमा, वायु, कपूर, विष्णु, ब्रह्मा, आयुध; -क्रांत—(पुं.) संगीत का एक ताल; -दार—(स्त्री.) चन्द्रमा की स्त्री रोहिणी; -प्रिया—(स्त्री.) कुमुदिनी; -बंधु—(पुं.) कुमुद का फूल; -मणि—(पुं., स्त्री.) चन्द्रकान्तमणि; -मुखी—(स्त्री.) चन्द्रमुखी, सुन्दर स्त्री; -वदनी—(स्त्री.)

विधिना—(हिं.पुं.) विधि, ब्रह्मा ।

विधुतुद—(सं.पुं.) चन्द्रमा को कष्ट देनेवाला राहु ।

विधु—(सं.पुं.) चन्द्रमा, वायु, कपूर, विष्णु, ब्रह्मा, आयुध; -क्रांत—(पुं.) संगीत का एक ताल; -दार—(स्त्री.) चन्द्रमा की स्त्री रोहिणी; -प्रिया—(स्त्री.) कुमुदिनी; -बंधु—(पुं.) कुमुद का फूल; -मणि—(पुं., स्त्री.) चन्द्रकान्तमणि; -मुखी—(स्त्री.) चन्द्रमुखी, सुन्दर स्त्री; -वदनी—(स्त्री.)

विधिना—(हिं.पुं.) विधि, ब्रह्मा ।

विधुतुद—(सं.पुं.) चन्द्रमा को कष्ट देनेवाला राहु ।

विधु—(सं.पुं.) चन्द्रमा, वायु, कपूर, विष्णु, ब्रह्मा, आयुध; -क्रांत—(पुं.) संगीत का एक ताल; -दार—(स्त्री.) चन्द्रमा की स्त्री रोहिणी; -प्रिया—(स्त्री.) कुमुदिनी; -बंधु—(पुं.) कुमुद का फूल; -मणि—(पुं., स्त्री.) चन्द्रकान्तमणि; -मुखी—(स्त्री.) चन्द्रमुखी, सुन्दर स्त्री; -वदनी—(स्त्री.)

विधिना—(हिं.पुं.) विधि, ब्रह्मा ।

विधुतुद—(सं.पुं.) चन्द्रमा को कष्ट देनेवाला राहु ।

विधु—(सं.पुं.) चन्द्रमा, वायु, कपूर, विष्णु, ब्रह्मा, आयुध; -क्रांत—(पुं.) संगीत का एक ताल; -दार—(स्त्री.) चन्द्रमा की स्त्री रोहिणी; -प्रिया—(स्त्री.) कुमुदिनी; -बंधु—(पुं.) कुमुद का फूल; -मणि—(पुं., स्त्री.) चन्द्रकान्तमणि; -मुखी—(स्त्री.) चन्द्रमुखी, सुन्दर स्त्री; -वदनी—(स्त्री.)

चन्द्रमा के समान मुखवाली स्त्री, सुन्दर स्त्री ।

विधुर-(सं. वि.) व्यग्र, व्याकुल, दुःखी, असमर्थ, परित्यक्त, छोड़ा हुआ; (पुं.) वियोग, मोक्ष ।

विद्यत-(सं. वि.) कांपता हुआ, हटाया हुआ, दूर किया हुआ ।

विधम-(सं. वि.) घुम्ररहित, विना घुंका ।

विधेय-(सं. वि.) कर्त्तव्य, जिसका करना उचित हो, होनेवाला, अधीन, वशीभूत, नियम या विधि द्वारा जानने योग्य, जिसका विधान होनेवाला हो; (पुं.) वाक्य का वह अंश जिसमें कर्त्ता के विषय में कुछ कहा जाता है ।

विधेयता-(सं. स्त्री.) विधेय होने का भाव, अधीनता ।

विधेयात्मा-(सं. पुं.) विष्णु ।

विधेयाविमर्ष-(सं. पुं.) साहित्य में वह वाक्यदोष जो विधेय अंश की मुख्य बात को विच्छिन्न स्थान पर रखने से होता है ।

विध्यपाश्रय-(सं. पुं.) विधि का आश्रय करनेवाला मनुष्य ।

विध्याभास-(सं. पुं.) वह अर्थालंकार जिसमें किसी अनिष्ट या आपत्ति की संभावना होने पर विवश होकर किसी बात की सम्मति दी जाती है ।

विध्वंश-(सं. पुं.) नाश, अनादर, वैर ।

विध्वंसक-(सं. वि., पुं.) नाश करनेवाला ।

विध्वंसित-(सं. वि.) नाश किया हुआ ।

विध्वंसी-(सं. वि.) नाश करनेवाला ।

विध्वस्त-(सं. वि.) नाश किया हुआ ।

विन-(हिं. सर्व.) उस; (अव्य.) विना ।

विनत-(सं. वि.) विनीत, नम्र, शिष्ट, झुका हुआ, सिकुड़ा हुआ; (पुं.) शिव, महादेव, सुग्रीव की सेना के एक बंदर का नाम ।

विनतड़ी-(हिं. स्त्री.) देखें 'विनति' ।

विनता-(सं. स्त्री.) दक्ष प्रजापति की एक कन्या जो गरुड़ की माता थी ।

विनतासूनु-(सं. पुं.) गरुड़ ।

विनति-(सं. स्त्री.) विनती, नम्रता, शिष्टता, सुशीलता, प्रार्थना, झुकाव, शासन, दण्ड, निवारण, रोक ।

विनती-(हिं. स्त्री.) देखें 'विनति' ।

विनमन-(सं. पुं.) झुकना, नवाना ।

विनम्र-(सं. वि.) अति विनीत, सुशील ।

विनय-(सं. स्त्री.) नम्रता, प्रार्थना, विनती, नीति, शासन; (पुं.) जितेन्द्रिय, संयमी; -रुमं-(पुं.) शिक्षण,

विद्या, शिक्षा, ज्ञान; -ग्राही-(वि.)

नियम का पालन करनेवाला; -ता-

(स्त्री.) विनय का भाव या धर्म;

-वर-(पुं.) पुरोहित; -पत्र-(पुं.)

प्रार्थना-पत्र; -षिटक-(पुं.) बौद्धों

का एक प्राचीन धर्म-ग्रन्थ जो पाली

भाषा में लिखा है; -ज्ञान-(वि.) नम्र,

शिष्ट; -शील-(वि.) विनययुक्त,

सुशील; -स्थ-(वि.) आज्ञाकारी ।

विनयिता-(सं. पुं.) विष्णु ।

विनयी-(सं. वि.) विनययुक्त, विनीत,

नम्र ।

विनशन-(सं. पुं.) नाश ।

विनशना, विनशाना-(हिं. क्रि. अ., स.)

देखें 'विनसना', 'विनसाना' ।

विनश्चर-(सं. वि.) अनित्य, नष्ट होने-

वाला; -ता-(स्त्री.) अनित्यता ।

विनष्ट-(सं. वि.) जो नष्ट हो गया हो;

ध्वस्त, मरा हुआ, घुरे आचरण का,

पतित ।

विनस-(सं. वि.) विना नाक का ।

विनसना-(हिं. क्रि. अ.) लुप्त होना,

नष्ट होना ।

विनसाना-(हिं. क्रि. स.) नष्ट करना,

विगाड़ना ।

विना-(सं. अव्य.) अभाव में ।

विनाती-(हिं. स्त्री.) विनय, प्रार्थना ।

विनाथ-(सं. वि.) विना रक्षक का,

अनाथ ।

विनाम-(सं. पुं.) झुकाव, टेढ़ापन ।

विनायक-(सं. पुं.) गणनायक, गणेश,

गरुड़, विघ्न, वाघा; -केतु-(पुं.)

श्रीकृष्ण; -चतुर्यो-(स्त्री.) माघ

सुदी चौथ ।

विनाश-(सं. पुं.) ध्वंस, नाश, लोप,

हानि ।

विनाशक-(सं. पुं., वि.) विनाश करनेवाला ।

विनाशन-(सं. पुं.) संहार, नाश ।

विनाशित-(सं. वि.) नाश किया हुआ,

विगाड़ा हुआ ।

विनास-(हिं. पुं.) विनाश ।

विनासक-(सं. वि.) विना नाक का,

नकटा ।

विनासन-(हिं. पुं.) देखें 'विनाशन' ।

विनासना-(हिं. क्रि. स.) संहार करना,

नष्ट करना, विगाड़ना ।

विनाह-(सं. पुं.) कुर्ण का ढपना ।

विनिदक-(सं. पुं.) निन्दा करनेवाला ।

विनिदित-(सं. वि.) जिसकी बहुत निन्दा

की गई हो ।

विनिःसृत-(सं. वि.) बाहर निकाला हुआ ।

विनिकार-(सं. पुं.) अपराध, धति ।

विनिक्षिप्त-(सं. वि.) परित्यक्त, छोड़ा

हुआ ।

विनिग्रह-(सं. पुं.) प्रतिबंध, बंधेज, संयम ।

विनिघ्न-(सं. वि.) गुणा किया हुआ ।

विनिद्र-(सं. वि.) निद्रारहित; -ता-

(स्त्री.) निद्रा का अभाव; -त्व-(पुं.)

जागरण, विनिद्रता ।

विनिध्वस्त-(सं. वि.) ध्वस्त, नष्ट ।

विनिपात-(सं. पुं.) ध्वंस, वध, हत्या,

अपमान; -ह-(वि.) संहार या

अपमान करनेवाला ।

विनिपातित-(सं. वि.) गिराया हुआ ।

विनिमय-(सं. पुं.) परिवर्तन, अदल-

बदल, बंधक, गिरवी ।

विनिमुपत-(सं. वि.) नियोजित, किसी

काम में लगाया हुआ ।

विनियोग-(सं. पुं.) फल की आकांक्षा से

किसी वस्तु का उपयोग, प्रयोग, वैदिक-

कृत्य में किसी मन्त्र का प्रयोग, विभाग ।

विनियोजित-(सं. वि.) प्रेरित, नियुक्त,

लगाया हुआ, अर्पित ।

विनिर्गत-(सं. वि.) निकला हुआ,

बीता हुआ ।

विनिर्गम-(सं. पुं.) बाहर होना, निक-

लना, प्रस्थान ।

विनिर्घोष-(सं. पुं.) उच्च शब्द ।

विनिर्जय-(सं. पुं.) पूर्ण रूप से विजय ।

विनिर्जित-(सं. वि.) पराभूत, पराजित ।

विनिर्भय-(सं. वि.) भयरहित ।

विनिर्मल-(सं. वि.) अति निर्मल ।

विनिर्माण-(सं. पुं.) अच्छी तरह बनाना ।

विनिर्मित-(सं. वि.) अच्छी तरह बनाया

हुआ ।

विनिर्मुक्त-(सं. वि.) बंधन से रहित,

छूटकारा पाया हुआ ।

विनिर्मुक्ति-(सं. स्त्री.) मोक्ष, उद्धार ।

विनिर्मिक-(सं. वि.) वस्त्ररहित ।

विनिर्याण-(सं. पुं.) गमन, जाना ।

विनिर्वृत्त-(सं. वि.) सम्पन्न, समाप्त ।

विनिर्वर्तन-(सं. पुं.) लौटना ।

विनिर्वर्तित-(सं. वि.) लौटाया हुआ ।

विनिवारण-(सं. पुं.) रोक, नियंत्रण,

निषेध ।

विनिवृत्त-(सं. वि.) लौटा हुआ ।

विनिवेदन-(सं. पुं.) विज्ञेय रूप से

निवेदन करना ।

विनिवेश-(सं. पुं.) वास, प्रवेश, घुसना ।

विनिवेशन-(सं. पुं.) स्थिति, वास प्रवेश ।

विनिवेशित—(सं. वि.) स्थापित, ठहरा हुआ, बसा हुआ ।
 विनिवेशी—(सं. वि.) प्रवेश करनेवाला, बसनेवाला ।
 विनिश्चय—(सं. पुं.) पूर्ण रूप से निर्णय करता ।
 विनिश्चल—(सं. वि.) बृह, पूर्णतः स्थिर ।
 विनिष्कंप—(सं. वि.) कंपरहित ।
 विनिष्पात—(सं. पुं.) आघात, चोट ।
 विनिष्पेष—(सं. पुं.) पीसना, घिसना ।
 विनिहत—(सं. वि.) आहत, चोट खाया हुआ ।
 विनीत—(सं. वि.) सुशील, शिष्ट, नम्र, संयमी, सिखलाया हुआ, शासित, धार्मिक; (पुं.) पुलस्त्य के एक पुत्र का नाम; -ता—(स्त्री.) नम्रता ।
 विनीति—(सं. स्त्री.) सुशीलता, सम्मान ।
 विनु—(हि. अव्य.) देखें 'विना' ।
 विनुठा—(हि. वि.) अपूर्व, अनूठा, सुन्दर ।
 विनेता—(सं. पुं.) शिक्षक, शासनकर्ता ।
 विनेत्र—(सं. पुं.) शिक्षक, उपदेशक ।
 विनोक्ति—(सं. स्त्री.) वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की श्रेष्ठता या हीनता का वर्णन रहता है ।
 विनोद—(सं. पुं.) मनोरंजक व्यापार, कौतूहल, खेलकूद, क्रीड़ा, प्रसन्नता, आनन्द ।
 विनोदन—(सं. पुं.) खेलकूद, परिहास ।
 विनोदित—(सं. वि.) हर्षित, प्रसन्न ।
 विनोदी—(सं. वि.) क्रीड़ा करनेवाला, खेल-कूद करनेवाला, हँसी करनेवाला, आनंदी ।
 विन्यस्त—(सं. वि.) स्थापित, रखा हुआ ।
 विन्यास—(सं. पुं.) ठीक स्थान पर रखना या बैठाना, जड़ना ।
 विपंदी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की बीणा ।
 विपवव—(सं. वि.) अच्छी तरह पका हुआ ।
 विपक्ष—(सं. पुं.) विरुद्ध पक्ष, विरोधी, प्रतिद्वन्द्वी, शत्रु, विरोध, खण्डन, व्याकरण में वाक्य नियम या अपवाद; (वि.) विरुद्ध, प्रतिकूल, विना पक्ष या डैने का; -ता—(स्त्री.) विपक्ष होने की क्रिया या भाव ।
 विपक्षी—(सं. पुं., वि.) विरुद्ध पक्ष का, शत्रु, प्रतिवादी, विना पर का ।
 विपक्षीय—(सं. वि.) शत्रु के पक्ष का ।
 विपणी—(सं. स्त्री.) हाट, दुकान ।

विपताक—(सं. वि.) पताकारहित, विना झंडे का ।
 विपत्ति—(सं. स्त्री.) आपत्ति, क्लेश, संकट की अवस्था, कठिनाई; (मुहा.) -झेलना-कष्ट सहना; -भुगतना-दुःख सहना; -मोल लेना-झंडट में पड़ना ।
 विपथ—(सं. पुं.) कुमार्ग, बुरा मार्ग ।
 विपद्—(सं. स्त्री.) आपत्ति, संकट ।
 विपदा—(सं. स्त्री.) विपत्ति, संकट, दुःख ।
 विपन्न—(सं. वि.) आपत्ति में पड़ा हुआ, दुःखी, भ्रम में पड़ा हुआ; -ता—(स्त्री.) विपत्ति ।
 विपराक्रम—(सं. वि.) पराक्रमरहित ।
 विपरिणाम—(सं. पुं.) परिवर्तन, परिणाम ।
 विपरिधान—(सं. पुं.) परिवर्तन ।
 विपरिभ्रंश—(सं. पुं.) विनाश ।
 विपरिवर्तन—(सं. पुं.) चक्कर खाना ।
 विपरीत—(सं. वि.) विरुद्ध, रूढ़, दुःखद, अनुपयुक्त; (पुं.) वह अर्थालंकार जिसमें स्वयं साधक ही अपने कार्य की सिद्धि में बाधक दिखलाया जाता है; -ता—(स्त्री.) विपरीत होने का भाव ।
 विपरीतार्थ—(सं. वि.) जिसका अर्थ उलटा हो ।
 विपरीतोपमा—(सं. स्त्री.) वह उपमा जिसमें किसी भाग्यशाली व्यक्ति की हीनता का वर्णन किया गया हो ।
 विदर्णक—(सं. वि.) विना पत्तों का ।
 विपर्यय—(सं. पुं.) व्यतिक्रम, मिथ्या ज्ञान, उलट-फेर, अव्यवस्था, भ्रम, नाश ।
 विपर्यस्त—(सं. वि.) उलटा-पलटा हुआ ।
 विपर्यास—(सं. पुं.) व्यतिक्रम, मिथ्या ज्ञान ।
 विपल—(सं. पुं.) समय का अति सूक्ष्म-विभाग जो पल का साठवाँ भाग होता है ।
 विपलायी—(सं. वि.) भागनेवाला ।
 विपलाश—(सं. वि.) विना पत्तों का ।
 विपलन—(सं. पुं.) शुद्ध हवा ।
 विपश्चित्—(सं. वि. पुं.) सूक्ष्मदर्शी, विद्वान्, पण्डित ।
 विपाक—(सं. पुं.) पूर्ण दशा को पहुँचना, कर्म का फल, परिणाम, खाये हुए भोजन का पेट में पचना, स्वाद, दुर्दशा, दुर्गति ।
 विपाटन—(सं. पुं.) उखाड़ना, खोदना ।
 विपाटल—(सं. वि.) जिसका रंग हलका लाल हो ।

विपाटित—(सं. वि.) उखाड़ा हुआ ।
 विपात—(सं. पुं.) नाश ।
 विपातक—(सं. पुं., वि.) नाश करनेवाला ।
 विपात(द)न—(सं. पुं.) वध, हत्या ।
 विपादिका—(सं. स्त्री.) वेवाई, पहेली ।
 विपादित—(सं. वि.) नष्ट किया हुआ ।
 विपाप—(सं. वि.) पापरहित ।
 विपाल—(सं. वि.) जिसका पालनेवाला कोई न हो ।
 विपाश—(सं. वि.) पाशरहित ।
 विपाशा(सा)—(सं. स्त्री.) पंजाव की व्यास नदी का प्राचीन नाम ।
 विपिन—(सं. पुं.) उपवन, वाटिका, जंगल; -चर—(वि.) वन में रहनेवाला मनुष्य या पशु; -तिलका—(स्त्री.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पन्द्रह अक्षर होते हैं; -पति—(पुं.) सिंह; -विहारी—(वि.) जंगल में विहार करनेवाला, श्रीकृष्ण का एक नाम ।
 विपुंसक—(सं. वि.) पुरुषत्व से हीन ।
 विपुसी—(सं. स्त्री.) पुरुष के समान चेष्टा और प्रकृतिवाली स्त्री ।
 विपुत्र—(सं. वि.) पुत्रहीन, पुत्ररहित ।
 विपुत्रा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसको कोई पुत्र न हो ।
 विपुल—(सं. वि.) बृहत्, अगाध, संख्या या परिमाण में अधिक; (पुं.) वसुदेव के एक पुत्र का नाम; -ता—(स्त्री.), -त्व—(पुं.) अधिकता, बहुतायत; -मति—(पुं.) बहुत बुद्धिमान्; -स्बंध—(पुं.) अजुन का एक नाम ।
 विपुला—(सं. स्त्री.) वसुधरा, पृथ्वी, आर्या छन्द का एक भेद, एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में आठ अक्षर होते हैं; -ई—(हि. स्त्री.) विपुलता, अधिकता ।
 विपुष्ट—(सं. वि.) अपुष्ट, अदृढ़ ।
 विपुष्प—(सं. वि.) विना फूल का ।
 विपुष्पित—(सं. वि.) प्रफुल्लित, फूल से विहीन किया हुआ ।
 विपोहना—(हि. क्रि. स.) लीपना-पोतना, नाश करना ।
 विप्र—(सं. पुं.) ब्राह्मण, पुरोहित; -चरण—(पुं.) विष्णु के हृदय पर भृगु मुनि के लात का चिह्न; -देव—(पुं.) ब्राह्मण; -पद—(पुं.) भृगु मुनि के लात का चिह्न जो विष्णु की छाती पर माना जाता है; -बंधु—(पुं.) नीच ब्राह्मण; -राम—(पुं.) परशुराम ।

विप्रकर्ष—(सं. पुं.) दूर खींच ले जाना ।
 विप्रकर्षण—(सं.पुं.) दूर खींच ले जाने की क्रिया;—शक्ति—(स्त्री.) परमाणुओं की वह शक्ति जिससे वे सटे रहते हैं ।
 विप्रकार—(सं. पुं.) तिरस्कार, अपमान ।
 विप्रकीर्ण—(सं. वि.) अव्यवस्थित, छितराया हुआ, बिखरा हुआ ।
 विप्रकृत—(सं. वि.) तिरस्कार किया हुआ ।
 विप्रकृष्ट—(सं. वि.) खींचकर दूर किया हुआ ।
 विप्रचित्ति—(सं. पुं.) एक दानव जिसके पुत्र का नाम राहु था ।
 विप्रतारक—(सं. वि.) धोखा देनेवाला ।
 विप्रतिपत्ति—(सं. स्त्री.) मेल न होना, विरोध ।
 विप्रतिसार—(सं. पुं.) पश्चात्ताप ।
 विप्रतीप—(सं. वि.) प्रतिकूल, विरुद्ध ।
 विप्रथित—(सं. वि.) प्रसिद्ध ।
 विप्रदुष्ट—(सं. वि.) कामुक, लंपट ।
 विप्रधर्ष—(सं. पुं.) इधर-उधर परेशान होना, भागते फिरना ।
 विप्रनष्ट—(सं. वि.) पूर्णतः नष्ट ।
 विप्रपाल—(सं. पुं.) पूर्णतः गिरना, ढाला हुआ टीला ।
 विप्रबुद्ध—(सं. वि.) जागा हुआ ।
 विप्रबोधित—(सं. वि.) अच्छी तरह समझाया हुआ ।
 विप्रसत्त—(सं. वि.) प्रमादपूर्ण, प्रमत्त ।
 विप्रमाथी—(सं. वि.) अच्छी तरह मथनेवाला ।
 विप्रमादी—(सं. वि.) विप्रमत्त ।
 विप्रमोक्ष—(सं. पुं.) विमोचन, मुक्ति ।
 विप्रमोह—(सं. पुं.) चमत्कार ।
 विप्रयाण—(सं. पुं.) पलायन, भागना ।
 विप्रयुक्त—(सं. वि.) अलग, बिछूड़ा हुआ ।
 विप्रयोग—(सं. पुं.) वियोग ।
 विप्रलम्भ—(सं. पुं.) प्रियजन का न मिलना, विरह, शृंगार-रस का वह भेद जिसमें नायक-नायिका के विरहजन्य सन्ताप का वर्णन रहता है ।
 विप्रलम्भक—(सं. वि.) छली, धूर्त ।
 विप्रलम्ब—(सं. वि.) प्रतारित, धोखा खाया हुआ, वंचित ।
 विप्रलम्बा—(सं. स्त्री.) वह नायिका जो संकेत-स्थान में प्रिय को न पाकर निराश होती है ।
 विप्रलाप—(सं. पुं.) व्यर्थ वक्ताव ।
 विप्रलीन—(सं. वि.) चारों ओर बिखरा हुआ ।

विप्रलुपक—(सं. वि.) लोलुप, लालची ।
 विप्रलुप्त—(सं. वि.) चुराया हुआ, लूटा हुआ, उड़ाया हुआ ।
 विप्रलोप—(सं. पुं.) पूर्ण लोप, नाश ।
 विप्रलोभी—(सं. वि.) बहुत लालची, ठग ।
 विप्रवसित—(सं. वि.) परदेश गया हुआ ।
 विप्रवाद—(सं. पुं.) लड़ाई, झगड़ा, कलह ।
 विप्रवास—(सं. पुं.) परदेश में रहना ।
 विप्रवीर—(सं. वि.) बड़ा पराक्रमी ।
 विप्रनाजिनी—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जो दो पुरुषों से संवध रखती हो ।
 विप्रश्न—(सं. पुं.) भाग्य-संबंधी प्रश्न जिसका उत्तर फलित ज्योतिष से मिले ।
 विप्रश्निक—(सं. पुं.) दैवज्ञ, ज्योतिषी ।
 विप्रसारण—(सं. पुं.) विस्तार, फैलाव ।
 विप्रेक्षण—(सं. पुं.) अच्छी तरह देखना ।
 विप्रेक्षित—(सं. वि.) अच्छी तरह देखा हुआ ।
 विप्रेत—(सं. वि.) जो बीत गया हो ।
 विप्रेषित—(सं. वि.) बाहर भेजा हुआ ।
 विप्लव—(सं. पुं.) उपद्रव, विद्रोह, विपत्ति, अव्यवस्था, विनाश, डाँट-डपट, नदी की बाढ़, नाव का डूबना, घोड़े की सरपट चाल ।
 विप्लाव—(सं. पुं.) नदी की बाढ़ ।
 विप्लावक—(सं. पुं.) राज्यद्रोही, विद्रोही ।
 विप्लावी—(सं. वि.) उपद्रव करनेवाला ।
 विप्लुत—(सं. वि.) आकूल, घबड़ाया हुआ ।
 विप्लुति—(सं. स्त्री.) उपद्रव, विप्लव ।
 विफल—(सं. वि.) फलरहित, परिणामहीन, व्यर्थ, निष्फल, हताशा, निराश ।
 विबंध—(सं. पुं.) आलिंगन, धेर लेना ।
 विबंधु—(सं. वि.) बंधुरहित ।
 विवल—(सं. वि.) दुर्बल, अशक्त ।
 विनुद्ध—(सं. वि.) जाग्रत, जागता हुआ, विकसित, खिला हुआ ।
 विदुध—(सं. पुं.) बुद्धिमान्, पण्डित, चन्द्रमा, देवता, शिव, महादेव;—तटिनी—(स्त्री.) आकाशगंगा;—तल—(पुं.) कल्प-वृक्ष;—धेनु—(स्त्री.) कामधेनु;—पति—(पुं.) इन्द्र;—विलासिनी—(स्त्री.) देवता की स्त्री, अप्सरा;—वन—(पुं.) नन्दनवन;—वेलि—(स्त्री.) कल्पलता;—वैद्य—(पुं.) अश्विनीकुमार ।
 विदुधाधिप, विदुधाधिपति—(सं.पुं.) इन्द्र ।
 विदुधान—(सं. पुं.) आचार्य, देवता ।
 विदुधायगा—(सं. स्त्री.) आकाशगंगा ।
 विदुधावास—(सं. पुं.) देवमन्दिर, स्वर्ग ।

विदुधेतर—(सं. पुं.) असुर, दैत्य ।
 विबोध—(सं. पुं.) जागरण, अच्छा ज्ञान, सचेत होना ।
 विबोधन—(सं. पुं.) समझाना-बुझाना, ढाढ़स देना, जागना, जगाना ।
 विबोधित—(सं. वि.) जताया या बतलाया हुआ, जगाया हुआ ।
 विभंग—(सं. पुं.) विभाग, क्रम का टूटना, मुख का भाव, झूमंग ।
 विभंज—(हिं. पुं.) टूटना, नाश, ध्वंस ।
 विभक्त—(सं.वि.) अलग या विभाग किया हुआ, बाँटा-हुआ ।
 विभक्ति—(सं. स्त्री.) अलग होने क्रिया या भाव, विभाग, बाँट, व्याकरण में शब्द में लगनेवाला वह शब्द जिससे उस शब्द का क्रिया से संबंध सूचित होता है ।
 विभग्न—(सं. वि.) टूटा-फूटा ।
 विभव—(सं. पुं.) ऐश्वर्य, धन, सम्पत्ति, मोक्ष, बहुतायत, साठ संबन्धों में से एक का नाम;—मद—(पुं.) धन, का अहंकार;—वान्—(वि.) शक्तिशाली;—शाली—(वि.) ऐश्वर्ययुक्त ।
 विभांडक—(सं. पुं.) एक मुनि जो ऋष्यश्रुंग के पता थे ।
 विभांति—(हिं. स्त्री.) प्रकार, भेद ।
 विभा—(सं. स्त्री.) प्रमा, कान्ति, शोभा;—कर—(पुं.) सूर्य, अग्नि, राजा, अर्क, वृक्ष ।
 विभाग—(सं. पुं.) बाँटने की क्रिया या भाव, बँटवरा, बखरा, अच्छाय, प्रकरण;—वत्—(वि.) विभाग के तुल्य ।
 विशागी—(सं. वि., पुं.) विभाग करनेवाला ।
 विभाजक—(सं. वि., पुं.) विभाग करनेवाला, बाँटनेवाला, गणित में वह संख्या जिससे किसी दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है, भाजक ।
 विभाजन—(सं. पुं.) भाग करने या बाँटने की क्रिया, पात्र, वरतन ।
 विभाजित—(सं. वि.) भाग किया हुआ, बाँटा हुआ, खण्ड किया हुआ ।
 विभाज्य—(सं. वि.) विभाग करने योग्य ।
 विभात—(सं. पुं.) प्रमात, सवेरा ।
 दिभाति—(सं. स्त्री.) शोभा, सुन्दरता ।
 वशाना—(हिं. क्रि. अ.) चमकना, मु-शोमित होना ।
 विभारना—(हिं. क्रि. अ.) चमकना ।
 विभाव—(सं. पुं.) अतंकार-शास्त्र में वह द्विधा जो रति आदि नायों को मन में उल्लास या उत्तेजित करती है ।
 विभावन—(सं. पुं.) विशेष रूप से चिन्तन ।

विभावना—(सं. स्त्री.) वह अर्थालंकार जिसमें कारण के बिना कार्य का होना, अपूर्ण कारण से कार्य की उत्पत्ति, अथवा अपवाद या विरुद्ध कारण से किसी कार्य की सिद्धि दिखलाई जाती है।
विभावनीय—(सं. वि.) चिन्तन करने योग्य।
विभावरी—(सं. स्त्री.) रात्रि, वह रात जिसमें तारे जगमगाते हों, हल्दी, घूर्त स्त्री, कुटनी, बहुत बकवाद करनेवाली स्त्री।
विभावरीश—(सं. पुं.) चन्द्रमा।
विभावसु—(सं. वि.) अधिक प्रभाववाला; (पुं.) एक वसु का नाम, सूर्य, अग्नि, मदार का वृक्ष, एक प्रकार का हार, चन्द्रमा, एक ऋषि का नाम।
विभावित—(सं. वि.) चिन्तित, सोचा हुआ।
विभास—(सं. पुं.) चमक, एक राग का नाम।
विभासक—(सं. वि., पुं.) चमकनेवाला, चमकानेवाला।
विभासना—(हिं. क्रि. अ.) चमकना।
विभासित—(सं. वि.) प्रकाशित, प्रकट।
विभिन्न—(सं. वि.) काटकर अलग किया हुआ, पृथक्, अनेक प्रकार का, उलटा; -ता—(स्त्री.) भेद।
विभीत—(सं. वि.) डरा हुआ।
विभीतक—(सं. पुं.) बहेड़े का वृक्ष।
विभीति—(सं. स्त्री.) भय, डर, शंका, सन्देह।
विभीषक—(सं. वि.) डरानेवाला।
विभीषण—(सं. वि.) बड़ा भयंकर या डरावना; (पुं.) रावण का भाई।
विभीषिका—(सं. स्त्री.) भय-प्रदर्शन, डरवाना।
विभु—(सं. वि.) जो सर्वत्र वर्तमान हो, जो सर्वव्यापक हो, सर्वत्र पहुँचनेवाला, महान्, बहुत बड़ा, नित्य, अचल, दृढ़, शक्तिमान्; (पुं.) ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, स्वामी, शिव, विष्णु।
विभुक्तु—(सं. पुं.) शत्रु को हरानेवाला।
विभुता, **विभुत्व**—(सं. स्त्री., पुं.) ऐश्वर्य, प्रभुता, शक्ति।
विभूति—(सं. स्त्री.) वृद्धि, बढ़ती, ऐश्वर्य, विभय, धन, सम्पत्ति, अलौकिक शक्ति, शिवजी के अंग में लगाने की राख, प्रभुत्व, बड़ाई, सृष्टि, लक्ष्मी, एक दिव्यास्त्र जो विश्वामित्र ने राम को दिया था, विष्णु का नित्य और स्थायी ऐश्वर्य, वह अलौकिक शक्ति जिसके अन्तर्गत आठ सिद्धियाँ हैं, यथा—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व; -मत्—(वि.) धनवान्; -मान्—(वि.) ऐश्वर्यशाली,

धनवान्।
विभूषण—(सं. पुं.) अलंकार, गहना।
विभूषणा—(सं. स्त्री.) शोभा।
विभूषना—(हिं. क्रि. स.) अलंकृत करना, सजाना।
विभूषा—(सं. स्त्री.) अलंकार, गहना।
विभूषित—(सं. वि.) सुशोभित, अलंकारों से सजाया हुआ, गुणों से युक्त।
विभूष्ण—(सं. पुं.) शिव, महादेव।
विभूटन—(हिं. पुं.) गले लगाना, भेंट करना।
विभेतव्य—(सं. वि.) डरने योग्य।
विभेत्ता—(सं. वि.) डरानेवाला।
विभेद—(सं. पुं.) विभाग, विभिन्नता, भेद, प्रकार, अन्तर, धँसना, प्रवेश करना, खंडन, फूट; -क—(वि.) काटनेवाला, भेद डालनेवाला; -कारी—(वि.) व्यक्तियों में फूट उत्पन्न करनेवाला, विभेदक।
विभेदन—(सं. पुं.) छेदना, तोड़ना, फूट डालना।
विभेदना—(हिं. क्रि. स.) छेदना, काटना, प्रवेश करना।
विभेदी—(सं. वि.) छेदनेवाला, फूट डालनेवाला, काटनेवाला।
विभो—(सं. पुं.) हे प्रभु।
विभोर—(सं. वि.) डूबा हुआ, तल्लीन।
विभौ—(हिं. पुं.) देखें 'विभव'।
विभ्रंश—(सं. पुं.) पतन, नाश, अवनति।
विभ्रंशित—(सं. वि.) पतित, विलुप्त।
विभ्रंशित-ज्ञान—(सं. वि.) ज्ञानशून्य।
विभ्रम—(सं. पुं.) भ्रमण, चक्कर, भ्रम, संशय, सन्देह, भूल, व्यग्रता, स्त्रियों का वह हाव जिसमें वे भ्रम में पड़कर अनेक भाव प्रकट करती हैं।
विभ्रमा—(सं. स्त्री.) वार्धक्य, बुढ़ापा।
विभ्रमी—(सं. वि.) विभ्रमयुक्त।
विभ्रान्त—(सं. वि.) भ्रम में पड़ा हुआ, चक्कर खाता हुआ।
विभ्रान्ति—(सं. स्त्री.) व्यग्रता, घबड़ाहट।
विभ्राट—(सं. पुं.) विपत्ति, उपद्रव, संकट।
विमंडन—(सं. पुं.) शृंगार करना, सजाना, आमूषण, गहना।
विमंडित—(सं. वि.) सुशोभित, सजा हुआ।
विमत—(सं. पुं.) विरुद्ध मत या सिद्धांत।
विमति—(सं. पुं.) दुर्बुद्धि, बुरा विचार, कुमति, विमत।
विमत्सर—(सं. पुं.) अधिक अहंकार, बहुत घमण्ड।
विमद—(सं. वि.) मदरहित।

विमन, **विमनस्क**—(सं. वि.) उदास, खिन्न।
विमन्यु—(सं. वि.) क्रोध-रहित।
विमर्द—(सं. पुं.) पीसना, मथना, लड़ाई-झगड़ा, विनाश, युद्ध।
विमर्दक—(सं. वि.) नाश करनेवाला, चूर-चूर करनेवाला, पीसनेवाला।
विमर्दन—(सं. पुं.) कुचलना, पीसना, नष्ट करना, मार डालना।
विमदित—(सं. वि.) कुचला हुआ, नष्ट किया हुआ।
विमर्दी—(सं. वि., पुं.) नष्ट करनेवाला, बध करनेवाला।
विमर्श—(सं. पुं.) समालोचना, परामर्श, परीक्षा, किसी बात पर अच्छी तरह विचार करना।
विमर्ष—(सं. पुं.) देखें 'विमर्श', नाटक का एक अंग जिसके अन्तर्गत अपवाद, खेद, संकट, द्वंद्व, विरोध आदि का वर्णन रहता है।
विमल—(सं. वि.) निर्मल, स्वच्छ, निर्दोष, शुद्ध, सुन्दर, मनोहर; (पुं.) चाँदी; -क—(पुं.) एक प्रकार का बहुमूल्य रत्न; -ता—(स्त्री.) शुद्धता, पवित्रता, मनोहरता; -त्व—(पुं.) मनोहरता, स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता; -दान—(पुं.) केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिये दिया हुआ दान; -ध्वनि—(पुं.) छः चरणों का एक छन्द जो दोहा और सवैया को मिलाकर बनता है।
विमला—(सं. वि. स्त्री.) निर्मल, स्वच्छ; (स्त्री.) सरस्वती देवी; -पति—(पुं.) विष्णु।
विमलात्मा—(सं. वि.) शुद्ध अन्तःकरणवाला।
विमलार्थक—(सं. वि.) स्वच्छ।
विमलीकरण—(सं. पुं.) विमल या शुद्ध करने की क्रिया।
विमाता—(सं. स्त्री.) सौतेली माँ।
विमातृज—(सं. पुं.) सौतेला भाई।
विमान—(सं. पुं.) वायु-यान, हवाई जहाज आकाश-मार्ग, मरे हुए वृद्ध मनुष्य की अस्थि जो खूब सज-शज के साथ निकाली जाती है, रथ, सात खंडों का प्रासाद, अनादर।
विमानना—(सं. स्त्री.) अपमान, तिरस्कार।
विमानपोत—(सं. पुं.) हवाई जहाज।
विमानयितव्य—(सं. वि.) तिरस्कार करने योग्य।

विमाय-(सं. वि.) मायाहीन।
 विमार्ग-(सं. पुं.) कुमार्ग, कुचाल।
 विमिश्र, विमिश्रित-(सं. वि.) मिश्रित,
 मिला हुआ।
 विमुक्त-(सं. वि.) पूर्णतः मुक्त, जो
 बन्धन से छूटा हुआ हो, स्वतन्त्र,
 फेंका हुआ, छोड़ा हुआ, अलग किया
 हुआ; -ता-(स्त्री.) विमोचन, विमुक्ति।
 विमुक्ति-(सं. स्त्री.) मुक्ति, मोक्ष,
 छुटकारा।
 विमुख-(सं. वि.) मुखरहित, निवृत्त, उदा-
 सीन, विरुद्ध, निराश; -ता-(स्त्री.)
 विरोध, अप्रसन्नता, उदासीनता।
 विमुग्ध-(सं. वि.) मोहित, भ्रांत, भ्रम में
 पड़ा हुआ, व्यग्र, घबड़ाया हुआ, उन्मत्त,
 पागल, भूला हुआ; -कारी-(वि.)
 मोहित करनेवाला, भ्रम में डालनेवाला।
 विमुद्- (सं. वि.) आनन्दरहित, उदास,
 खिन्न।
 विमूर्च्छ-(सं. वि.) जिसकी मूर्च्छा दूर हो
 गई हो।
 विमूढ-(सं. वि.) मोहग्रस्त, भ्रम में
 पड़ा हुआ, बेसुध, अचेत, ज्ञानरहित,
 जड़बुद्धि, विमोहित; -गर्भ-(पुं.) वह
 गर्भ जिसमें बच्चा मरा हुआ या चेतना-
 ण्त्य हो।
 विमूल-(सं. वि.) निर्मूल, बिना जड़ का।
 विमूलन-(सं. पुं.) नाश, ध्वंस।
 विमृग्य-(सं. वि.) अन्वेषण के योग्य।
 विमृद्यु-(सं. वि.) मृत्युरहित, अमर।
 विमृश-(सं. पुं.) आलोचना।
 विमृष्ट-(सं. वि.) जिस पर तर्क-वितर्क
 या विचार किया गया हो।
 विमोक-(सं. पुं.) मुक्ति, छुटकारा।
 विमोक्ता-(सं. पुं.) मुक्त करनेवाला।
 विमोक्ष-(सं. पुं.) मुक्ति, छुटकारा।
 विमोक्षक-(सं. वि., पुं.) मुक्ति देनेवाला।
 विमोक्षण-(सं. पुं.) विमोचन, मुक्ति।
 विमोक्षित-(सं. वि.) मुक्त, विमोचित।
 विमोघ-(सं. वि.) अमोघ, व्यर्थ।
 विमोचक-(सं. वि.) बंधन से मुक्त
 करनेवाला।
 विमोचन-(सं. पुं.) बन्धन खोलना,
 मुक्त करना, बाहर करना, निकालना,
 फेंकना, गिराना।
 विमोचना-(हि. क्रि. स.) मुक्त करना,
 छुटकारा देना, गिराना, टपकाना।
 विमोचित-(सं. वि.) मुक्त किया हुआ,
 खोला हुआ।
 विमोह-(सं. पुं.) भ्रम, अज्ञान, अचेत या

बेसुव होना, एक नरक का नाम।
 विमोहक-(सं. वि., पुं.) चित्त को लुभाने-
 वाला, भ्रम में डालनेवाला।
 विमोहन-(सं. पुं.) मुख करना, चित्त को
 लुभाना, कामदेव के एक वाण का
 नाम।
 विमोहना-(हि. क्रि. अ., स.) मोहित होना या
 करना, बेसुव होना या करना, धोखे
 में डालना।
 विमोहा-(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके
 प्रत्येक चरण में दो रणण होते हैं, (इसका
 दूसरा नाम विजोहा है।)
 विमोहित-(सं. वि.) मुग्ध, लुभाया
 हुआ, मूर्च्छित, भ्रम में डाला हुआ।
 विमोही-(सं. वि.) मोहित करनेवाला,
 लुभानेवाला।
 विमौट-(हि. पुं.) दीमक का उठाया
 हुआ मिट्टी का स्तूप, बाँधी।
 विमौन-(सं. वि.) जो मौन न हो।
 विमौली-(सं. वि.) शिरोमूषण-रहित।
 विपंग-(हि. पुं.) दो अंगोंवाले, अर्ध-नारी-
 श्वर शिव, महादेव।
 विप-(हि. वि.) दो, जोड़ा।
 विपत्-(सं. पुं.) आकाश, वायुमण्डल;
 -पताका-(स्त्री.) विद्युत्, विजली।
 विपद्गंगा-(सं. स्त्री.) मंदाकिनी।
 विपद्ग-(सं. वि.) आकाशगामी।
 विपद्भृति-(सं. स्त्री.) अंधकार।
 विपद्मणि-(सं. पुं.) सूर्य।
 विपम-(सं. पुं.) संयम, दुःख, क्लेश।
 विपुक्त-(सं. वि.) जिसका वियोग हुआ
 हो, विछुड़ा हुआ, रहित, हीन।
 विपुत्-(सं. वि.) रहित, अलग, हीन।
 विप्यो-(हि. वि.) अन्य, दूसरा।
 विप्यो-(सं. पुं.) अलग होने का भाव,
 विच्छेद, विरह, अलगाव।
 विप्योगात्-(सं. वि.) ऐसा नाटक, उप-
 न्यास या कहानी जिसकी कथा का अन्त
 वियोगपूर्ण या दुःखपूर्ण हो।
 विप्योगिन, विप्योगिनी-(सं. स्त्री.) वह
 स्त्री जो अपने पति या प्रियतम से विछुड़ी
 हुई हो।
 विप्योगी-(हि. पुं, वि.) विरही पुरुष,
 जो अपनी प्रियतमा से विछुड़ा हुआ हो।
 विप्योजक-(सं. पुं.) पृथक् करनेवाला,
 गणित में वह संख्या जो किसी बड़ी
 संख्या से घटाई जानेवाली हो।
 विप्योजन-(सं. पुं.) पृथक् करना, बाकी
 निकालना।
 विप्योजनीय-(सं. वि.) विशिष्ट, अलग

किया जानेवाला।
 विथोजित-(सं. वि.) अलगाया हुआ।
 विरंग-(हि. वि.) बुरे रंग का, अनेक
 रंगों का।
 विरच-(सं. पुं.) ब्रह्मा।
 विरचि-(सं. पुं.) विरच, सृष्टि रचनेवाले
 ब्रह्मा; -सुत्-(पुं.) ब्रह्मा के पुत्र नारद।
 विरक्त-(सं. वि.) विमुख, अप्रसन्न, उदा-
 सीन; -ता-(स्त्री.) विमुखता, अप्रसन्नता
 विरवित-(सं. स्त्री.) उदासीनता, विराग।
 विरचन-(सं. पुं.) निर्माण, बनाना।
 विरचना-(हि. क्रि. स.) निर्माण
 करना; बनाना, सजाना, जो उचटना।
 विरचयित-(सं. पुं.) निर्माण करने-
 वाला, बनानेवाला।
 विरचित-(सं. वि.) निर्मित, बनाया
 हुआ, लिखित, लिखा हुआ।
 विरज-(सं. वि.) स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष।
 विरजस्का-(सं. वि.) जिस स्त्री का रजो-
 धर्म बंद हो गया हो।
 विरजा-(सं. स्त्री.) कंध का पेड़।
 विरत-(सं. वि.) विमुख, जो तत्पर न
 हो, विरक्त, वैरागी, लीन।
 विरति-(सं. स्त्री.) उदासीनता, वैराग्य।
 विरय-(सं. वि.) बिना रथ का, पैदल,
 रथ से गिरा हुआ।
 विरद-(हि. पुं.) प्रसिद्धि, यश, कीर्ति;
 (सं. वि.) बिना दाँत का।
 विरदावली-(हि. स्त्री.) यश की कथा।
 विरदैत-(हि. वि.) यशस्वी।
 विरम-(सं. पुं.) देखें 'विराम'।
 विरमण-(सं. पुं.) संभोग, विलास,
 त्याग।
 विरमना-(हि. क्रि. अ.) विराम करना,
 ठहरना, रम जाना, रुक जाना।
 विरमाना-(हि. क्रि. स.) अनुरक्त करना,
 फँसाना, किसी कार्य में फँसा रखना,
 मुलावे में रखना।
 विरल-(सं. वि.) जो घना न हो, जो दूर-
 दूर हो, पतला, दुर्लभ, अल्प, थोड़ा;
 -ता-(स्त्री.) विरल होने का भाव।
 विरव-(सं. वि.) शब्दरहित।
 विरश्मि-(सं. वि.) बिना तिरणों का।
 विरस्त-(सं. वि.) नीरस, फीका, बिना
 स्वाद का, अरुचिकर, अध्रिय, रसहीन
 (काव्य); -ता-(स्त्री.) फीकापन,
 नीरसता।
 विरह-(सं. पुं.) किसी प्रिय-जन से अलग
 होने का भाव, किसी वस्तु का अगाध,
 वियोग, वियोग से होनेवाला दुःख आदि।

विरहा-(हि. पुं.) एक प्रकार का गीत जिसको अहीर या गड़ेरिये गाते हैं।
विरहिणी-(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका पति या प्रियतम से वियोग हुआ हो, और जिसके कारण वह दुःखी हो।
विरहित-(सं. वि.) रहित, शून्य, विना।
विरही-(सं. वि., पुं.) जिसका प्रियतमा से वियोग हुआ हो, वह जो इस वियोग से दुःखी हो।
विरहोत्कंठिता-(सं. स्त्री.) वह नायिका जिसको दृढ़ विश्वास हो कि उसका पति या प्रियतम अमुक समय में आयेगा परन्तु किसी कारणवश वह न आवे।
विराग-(सं. पुं.) लगन या इच्छा का न होना, उदासीन भाव, वैराग्य, संगीत में एक में मिले हुए दो राग।
विरागित-(सं. वि.) विरागयुक्त।
विरागी-(सं. वि., पुं.) विरक्त, संसार-त्यागी व्यक्ति, उदासीन।
विराजना-(हि. क्रि. अ.) उपस्थित रहना, शोभित होना, बैठना।
विराजमान-(सं. वि.) सुशोभित, बैठा हुआ।
विराजित-(सं. वि.) बैठा हुआ, विद्यमान, उपस्थित।
विराजिन्-(सं. वि.) सुशोभित, उपस्थित।
विराट-(सं. पुं.) ब्रह्मा का स्थूल रूप जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्व है, कान्ति, दीपक; (वि.) बहुत बड़ा या भारी।
विराट-(सं. पुं.) मत्स्य देश, इस देश के राजा जिनके यहाँ अज्ञातवास के समय पाण्डव लोग सेवक बनकर रहे थे, संगीत में एक ताल का नाम।
विरातक-(सं. पुं.) अर्जुन वृक्ष।
विराघ-(सं. पुं.) क्लेश, पीड़ा, कष्ट देना, एक राक्षस जिसको राम ने दण्डकारण्य में मारा था।
विराघन-(सं. पुं.) पीड़ा, कष्ट, विराघ।
विराम-(सं. पुं.) रुकना, ठहराव, विश्राम, बोलने आदि के समय वाक्य में वह स्थान जहाँ ठहरना पड़ता हो, छन्द के चरणों में पढ़ते समय ठहरने का स्थान, यति; -ताल-(पुं.) संगीत में एक ताल का नाम।
विराल-(सं. पुं.) विडाल, विल्ली।
विराव-(सं. पुं.) शब्द, बोली।
विरावी-(सं. वि.) कोलाहल करने वाला, चिल्लानेवाला।
विरास, विरासी-(हि. पुं., वि.) देखें 'विरास', 'विरासी'।
विरिचि-(हि. पुं.) ब्रह्मा, शिव, विष्णु।

विरुज-(सं. वि.) रोगरहित, नीरोग।
विरुक्षना-(हि. क्रि. अ.) उलझना।
विरक्त-(सं. वि.) कूजित, गूँजता हुआ।
विरुद-(सं. पुं.) यश, कीर्ति, वह कविता जिसमें किसी के गुण, प्रताप आदि का वर्णन हो।
विरुदावली-(सं. स्त्री.) किसी के प्रताप, पराक्रम आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन।
विरुद्ध-(सं. वि.) प्रतिकूल, विपरीत, अप्रसन्न, अनुचित; -कर्मा-(पुं.) विपरीत आचरणवाला मनुष्य, साहित्य में श्लेष अलंकार का एक भेद जिसमें किसी एक क्रिया के अनेक विरुद्ध फल दिखलाये जाते हैं; -ता-(स्त्री.) प्रतिकूलता, वैपरीत्य; -रूपक-(पुं.) रूपक अलंकार का वह भेद जिसमें कही हुई कोई बात स्थूलतया असम्बद्ध जान पड़ती है, परन्तु विचार करने पर संगत सिद्ध होती है।
विरुद्धार्थदीपक-(सं. पुं.) दीपक अलंकार का एक भेद जिसमें किसी एक कथन से दो परस्पर विरुद्ध क्रियाओं का एक साथ होना दिखलाया जाता है।
विरुधिर-(सं. वि.) रक्तहीन, जिसमें रुधिर न हो।
विरुक्ष-(सं. वि.) जो रुखा हो, कर्कश।
विरुद्ध-(सं. वि.) आरुढ़, चढ़ा हुआ, उत्पन्न।
विरुधिनी-(सं. स्त्री.) वैशाख कृष्णा एकादशी।
विरूप-(सं. वि.) कुरूप, भद्दा, विविध रूपों का, शोमारहित, बदला हुआ, विरुद्ध, भिन्न, उलटा; -ता-(स्त्री.) कुरूपता, भद्दापन।
विरूपा-(सं. स्त्री.) यम की पत्नी का नाम; (वि.) कुरूप, भद्दा।
विरूपाक्ष-(सं. वि.) डरावने नेत्रोंवाला; (पुं.) शिव, महादेव, एक दिग्गज का नाम, रावण के एक सेनापति का नाम।
विरुपिक्का-(सं. स्त्री.) कुरूपा स्त्री।
विरुपी-(सं. वि.) कुरूप।
विरिचक-(सं. वि.) शौच लानेवाला।
विरिचन-(सं. पुं.) शौच लानेवाली औषध।
विरोक-(सं. पुं.) सूर्य, किरण, दीप्ति, चमक।
विरोचन-(सं. वि.) प्रकाशमान; (पुं.) सूर्य की किरण, चन्द्रमा, विष्णु, मदार का पौधा; -सुत-(पुं.) राजा वलि।
विरोध-(सं. पुं.) विपरीत भाव, वैर, शत्रुता, अनवन, उलटी स्थिति, व्याघात,

नाश, मेल का न होना, वह अर्थालंकार जिसमें जाति, गुण, क्रिया अथवा द्रव्य में से किसी एक का दूसरी जाति, गुण, क्रिया या द्रव्य में से किसी एक के साथ विपरीतता दिखाई जाती हो, नाटक का एक अंग जिसमें किसी वर्णन के क्रम में किसी आपत्ति का आभास दिखलाया जाता है।
विरोधक-(सं. वि.) विरोध करनेवाला।
विरोधन-(सं. पुं.) नाश, नाटक में विमर्श का एक अंग जो उस समय होता है जब किसी कारण से कोई कार्य नष्ट होता हुआ दिखलाया जाता है।
विरोधना-(हि. क्रि. स.) विरोध करना, शत्रुता करना।
विरोधाचरण-(सं. पुं.) शत्रुता का व्यवहार।
विरोधाभास-(सं. पुं.) वह अर्थालंकार जिसमें जाति, गुण, क्रिया अथवा द्रव्य का विरोध दिखाई पड़ता है।
विरोधित-(सं. वि.) जिसका विरोध किया गया हो।
विरोधिता-(सं. स्त्री.) शत्रुता, वैर।
विरोधिनी-(सं. स्त्री.) विरोध करनेवाली।
विरोधी-(सं. वि., पुं.) विरोध करनेवाला, प्रतिद्वंद्वी, विपक्षी, शत्रु, साठ संवत्सरों में से पचीसवाँ संवत्सर।
विरोधी-श्लेष-(सं. पुं.) श्लेष अलंकार का वह भेद जिसमें श्लिष्ट शब्दों के द्वारा दो पदार्थों में भेद, न्यूनाधिकता या विरोध दिखलाया जाता है।
विरोधीवित-(सं. स्त्री.) परस्पर-विरोधी कथन।
विरोधीपमा-(सं. स्त्री.) उपमा अलंकार का वह भेद जिसमें किसी वस्तु की उपमा दो विरोधी पदार्थों से दी जाती है।
विरोध्य-(सं. वि.) विरोध के योग्य।
विरोधप-(सं. पुं.) रोपना, पौधा लगाना, घाव का भरना।
विरोम-(सं. वि.) रोम-रहित, विना रोयें का।
विरोध-(सं. वि.) क्रोधरहित, विना क्रोध का, धीर।
विरोहण-(सं. पुं.) पीधे को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में लगाना।
विरोही-(सं. पुं.) पौधा लगानेवाला।
विलंघन-(सं. पुं.) लंघन करना, उपवास करना, कूद या लाँघकर पार करना।
दिलंघना-(सं. स्त्री.) बाधा आदि दूर करना।

विलंघनीय—(सं. वि.) पार करने योग्य ।
 विलंघित—(सं. वि.) विफल, पराजित, पराभूत ।
 विलंघी—(सं. वि.) नियम का उल्लंघन करनेवाला ।
 विलंघ—(सं.पुं.) दीर्घसूत्रता, देर ।
 विलंबन—(सं.पुं.) देर करना, विलंब करना, लटकना ।
 विलंबना—(हिं. क्रि. अ.) देर करना, लटकना, मन में बसना ।
 विलंबित—(सं. वि.) लटकता हुआ, जिसमें देर हुई हो ।
 विलंबित-गति—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सत्रह अक्षर होते हैं ।
 विलंबी—(सं. वि.) देर करनेवाला ।
 विलंब—(सं.पुं.) उदारता, उपहार ।
 विल—(सं. वि.) विल, छिद्र, कंदरा ।
 विलक्ष—(सं. वि.) व्यग्र, घबड़ाया हुआ, आश्चर्य में पड़ा हुआ ।
 विलक्षण—(सं. वि.) अपूर्व, अद्भुत; -ता—(स्त्री.) अनोखापन ।
 विलखना—(हिं. क्रि. अ.) दुःखी होना ।
 विलखाना—(हिं. क्रि. अ., स.) विकल करना, घबड़ाना ।
 विलगा—(हिं. वि.) अलग, पृथक्; (पुं.) भेद ।
 विलगाना—(हिं. क्रि. अ., स.) अलग होना या करना, पृथक् करना ।
 विलग्न—(सं. वि.) संलग्न, लगा हुआ ।
 विलच्छन—(हिं. वि.) देखें 'विलक्षण' ।
 विलज्ज—(सं. वि.) लज्जारहित ।
 विलपन—(सं.पुं.) विलाप, वार्तालाप ।
 विलपना—(हिं. क्रि. अ.) विलाप करना, रोना ।
 विलपाना—(हिं. क्रि. स.) रुलाना, किसी को विलाप करने में प्रवृत्त करना ।
 विलग्न—(सं. वि.) अलग किया हुआ ।
 विलय—(सं. पुं.) प्रलय, लोप, नाश, मृत्यु ।
 विलसन—(सं. पुं.) चमकने की क्रिया, आमोद-प्रमोद, क्रीड़ा ।
 विलसना—(हिं. क्रि. अ.) विलास करना, क्रीड़ा करना, शोभित होना ।
 विलसाना—(हिं. क्रि. अ., स.) देखें 'विलसना', विलसने में प्रवृत्त करना ।
 विलाप—(सं. पुं.) क्रन्दन, विकल होकर रोने की क्रिया ।
 विलापना—(हिं. क्रि. अ.) विलाप करना, रोना ।
 विलायत—(अ.पुं.) इंग्लैंड, अमेरिका आदि

पश्चिमी देश ।
 विलायती—(अ. वि.) विलायत का ।
 विलायन—(सं.पुं.) प्राचीन काल का एक प्रकार का अस्त्र ।
 विलावली—(हिं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 विलास—(सं. पुं.) हर्ष, आनन्द, सुख-भोग, मनोरंजन, हाव-भाव, किसी अंग की मनोहर चेष्टा, अगमंगी, सुखोपभोग; -भवन, -मंदिर, -वैशम—(पुं.) क्रीड़ागृह, नाचघर; -विपिन—(पुं.) क्रीड़ावन; -शील—(वि.) विलास करनेवाला ।
 विलासिका—(सं. स्त्री.) नाटक में एक प्रकार का रूपक ।
 विलासिनी—(सं. स्त्री.) सुन्दर युवा स्त्री, वेश्या, रंडी, एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह वर्ण होते हैं ।
 विलासी—(सं. वि., पुं.) कामी पुरुष, विलास-शील ।
 विलिखित—(सं. वि.) लिखा हुआ, खुदा हुआ ।
 विलिप्त—(सं. वि.) लिपा-पुता हुआ ।
 विलीक—(हिं. वि.) अनुचित, अयोग्य ।
 विलीन—(सं. वि.) लिप्त, छिपा हुआ, नष्ट ।
 विलुपक—(सं. पुं.) चोर, ठग ।
 विलुप्त—(सं. वि.) जिसका विलोप हो गया हो ।
 विलुभित—(सं. वि.) चंचल ।
 विलुलित—(सं. वि.) लहराता हुआ ।
 विलून—(सं. वि.) कटा हुआ, अलग किया हुआ ।
 विलेप—(सं. पुं.) लेप ।
 विलेपन—(सं. पुं.) लेप करने की क्रिया, शरीर में लगाने का पदार्थ, अंगराग ।
 विलेशय—(सं. पुं.) विल में रहनेवाला जीव, सर्प, साँप ।
 विलोक—(सं. पुं.) दृष्टि ।
 विलोकना—(हिं. क्रि. स.) अवलोकन करना, देखना ।
 विलोकनीय—(सं. वि.) देखने योग्य ।
 विलोकित—(सं. वि.) देखा हुआ ।
 विलोचन—(सं. पुं.) नयन, नेत्र, आँख, एक नरक का नाम, आँख फोड़ने की क्रिया ।
 विलोडना—(हिं. क्रि. स.) मथना, क्षुब्ध करना ।
 विलोप—(सं. पुं.) नाश, हानि, विघ्न, लोप ।
 विलोपक—(सं. वि.) नाश करनेवाला ।
 विलोपना—(हिं. क्रि. स.) लोप करना, बाधा डालना ।

विलोपी—(सं. वि.) नाश करनेवाला ।
 विलोभ—(सं. पुं.) मोह, भ्रम, माया ।
 विलोभन—(सं. पुं.) मोहित करने की क्रिया या भाव ।
 विलोभ—(सं. वि.) प्रतिकूल, विपरीत, उलटा; (पुं.) उलटा क्रम, संगीत में स्वर का अवरोह या उतार, सर्प, कुत्ता; -त्रिया—(स्त्री.) अन्त से आदि की ओर जानेवाली क्रिया; -ज—(वि.) उच्च वर्ण की माता तथा नीच वर्ण के पिता से उत्पन्न (संतान); -जिह्व—(पुं.) हस्ती, हाथी; -वर्ण—(पुं.) वर्णसंकर जाति ।
 विलोल—(सं. वि.) चंचल, चपल ।
 विलोलन—(सं. पुं.) कंपन, कांपना ।
 विल्व—(सं. पुं.) वेल का पेड़; -पत्र—(पुं.) वेल का पत्ता; -मंगल—(पुं.) सूरदास का अन्वा होने के पहले का नाम ।
 विवश—(सं. वि.) वंशरहित ।
 विव—(हिं. वि.) दो, दूसरा ।
 विवसता—(सं.पुं.) कहनेवाला, संशोधक ।
 विवक्षा—(सं. स्त्री.) बोलने की इच्छा, आशय, तात्पर्य, अर्थ ।
 विवक्षित—(सं. वि.) अभिलषित, इच्छित अभिप्रेत, कथित ।
 विवदना—(हिं. क्रि. अ.) शास्त्रार्थ करना, झगड़ा या विवाद करना ।
 विवर—(सं. पुं.) विल, छेद, गड्ढा, कंदरा, गुहा ।
 विवरण—(सं. पुं.) सविस्तार वर्णन, व्याख्या, भाष्य, टीका, वृत्तान्त ।
 विवर्जक—(सं. वि.) त्याग करनेवाला ।
 विवर्जन—(सं. पुं.) परित्याग, उपेक्षा ।
 विवर्जनीय—(सं. वि.) त्याग करने योग्य ।
 विवर्जित—(सं. वि.) त्यक्त, निषिद्ध, उपेक्षित, रहित ।
 विवर्ष—(सं. वि.) रंग बदलनेवाला, नीच, कान्तिहीन; (पुं.) साहित्य में भय, लज्जा मोह आदि के कारण नायक या नायिक, के मुख का रंग उदास हो जाने का भाव ।
 विवर्त—(सं. पुं.) समूह, नृत्य, आकाश, रूपान्तर, भ्रम, भ्रान्ति ।
 विवर्तन—(सं. पुं.) परिभ्रमण, घूमना, फिरना ।
 विवर्तवाद—(सं. पुं.) वेदान्त का वह सिद्धान्त जिसके द्वारा संसार को माया तथा ब्रह्मा को सत्य मानते हैं ।
 विवर्तित—(सं. वि.) परिवर्तित, बदला हुआ, उलझा हुआ ।
 विवर्धन—(सं. पुं.) वृद्धि, बढ़ती, उन्नति ।
 विवर्धित—(सं. वि.) बढ़ा हुआ, उन्नत ।

विवश-(सं. वि.) पराधीन, लाचार;
 -ता-(स्त्री.) पराधीनता, लाचारी।
 विवशीकृत-(सं. वि.) विवश किया हुआ।
 विवस-(हिं. वि.) देखें 'विवश'।
 विवस्त्र-(सं. वि.) वस्त्रहीन, नंगा।
 विवस्वत्-(सं. पुं.) सूर्य, अरुण, पंद्रहवें
 प्रजापति का नाम।
 विवाद्य-(सं. वि.) वाक्यहीन।
 विवाद-(सं. पुं.) वाग्युद्ध, झगड़ा, कलह,
 मतभेद; (मुहा०) -उठाना- मतभेद
 प्रकट करना, झगड़ा आरंभ करना;
 -क-(पुं.) झगड़ालू, विवाद करनेवाला।
 विवादास्पद-(सं. वि.) जिस पर विवाद
 या झगड़ा हो, विवाद के योग्य।
 विवादी-(सं. वि., पुं.) विवाद करनेवाला,
 वादी, संगीत में वह स्वर जिसका व्यवहार
 किसी राग में बहुत कम होता है।
 विवाधिक-(सं. पुं.) फेरीवाला, धूम-
 फिरकर पदार्थ बेचनेवाला।
 विवास-(सं. पुं.) प्रवास, वास।
 विवासन-(सं. पुं.) वास करना।
 विवाह-(सं. पुं.) वह संस्कार जिसमें पुरुष
 और स्त्री यौनचर्या तथा संतान की
 उत्पत्ति के लिए परस्पर सम्बद्ध किये जाते
 हैं, पाणिग्रहण, परिणय, व्याह, दारकर्म।
 विवाहना-(हिं.क्रि.स.) व्याह करना।
 विवाहित-(सं. वि.) जिसका विवाह हो
 चुका हो।
 विवाहिता-(सं. वि. स्त्री.) व्याही हुई स्त्री।
 विवाही-(हिं. वि. स्त्री.) जिसका विवाह
 हो चुका हो।
 विवाह्य-(सं. वि.) पाणिग्रहण करने योग्य।
 विवि-(हिं. वि.) दो, दूसरा।
 विविक्त-(सं. वि.) पृथक् किया हुआ,
 विखरा हुआ, पवित्र, निर्जन; -चरित-
 (वि.) शुद्ध आचरणवाला।
 विविक्षु-(सं. वि.) आश्रय चाहनेवाला।
 विविचार-(सं. वि.) विवेक या विचार-
 रहित।
 विविचारी-(सं. वि., पुं.) दुराचारी,
 दुश्चरित्र।
 विविक्ता-(सं. स्त्री.) जानने की इच्छा।
 विविक्तु-(सं. वि.) जानने के लिये उत्सुक।
 विविदिषा-(सं. स्त्री.) जानने की इच्छा।
 विविध-(सं. वि.) अनेक प्रकार का।
 विविर-(सं. पुं.) खोह, गुहा, विल।
 विदुध-(सं. पुं.) देवता, ज्ञानी, पण्डित;
 -पुर-(पुं.) स्वर्ग; -प्रिया-(स्त्री.)
 एक वर्णवृत्त का नाम; -वन-(पुं.)
 नन्दनवन; -वैद्य-(पुं.) अश्विनीकुमार।

विवुधेश-(सं. पुं.) देवताओं के राजा इन्द्र।
 विवृत-(सं. वि.) विस्तृत, फैला हुआ।
 विवृत्त-(सं. वि.) धूमता हुआ, चक्कर
 खाता हुआ।
 विवृत्ति-(सं. स्त्री.) परिभ्रमण, चक्कर,
 भाग्य, टीका।
 विवृत्तोक्ति-(सं. स्त्री.) वह अलंकार
 जिसमें श्लेष का अर्थ कवि स्वयं प्रकट
 कर देता है।
 विवेक-(सं. पुं.) भले-बुरे का ज्ञान,
 अच्छा-बुरा जानने की शक्ति, बुद्धि,
 विचार, ज्ञान; -ज्ञ-(पुं.) वह जिसको
 भले-बुरे का पूरा ज्ञान हो; -ज्ञान-
 (पुं.) तत्त्वज्ञान, सच्चा ज्ञान; -ता-
 (स्त्री.) ज्ञान; -वान्-(वि.) बुद्धिमान्,
 विवेकी।
 विवेकी-(सं. वि., पुं.) भले-बुरे का ज्ञान
 रखनेवाला, बुद्धिमान्, ज्ञानी, न्यायाधीश।
 विवेचन-(सं. पुं.) परीक्षा, जांच, निर्णय,
 अनुसंधान, मीमांसा, व्याख्या।
 विवेचना-(सं. स्त्री.) देखें 'विवेचन'।
 विवेचनीय-(सं. वि.) मीमांसा या विवेचन
 करने योग्य।
 विवेचित्त-(सं. वि.) निश्चित, विवेचन
 किया हुआ।
 विव्वोक-(सं. पुं.) शृंगार के अनुसार
 वह भाव जिससे स्त्रियाँ संयोग के समय
 नायक का अनादर करती हैं।
 विशंक-(सं. वि.) निर्भय, निडर।
 विशंकनीय-(सं. वि.) शंकायुक्त, डरपोक।
 विशंका-(सं. स्त्री.) अविश्वास, संदेह।
 विशंकी-(सं. वि.) जिसको किसी का
 भय हो, आशंकायुक्त।
 विश-(सं. पुं.) मृणाल, कमल की डंडी,
 मनुष्य।
 विशद-(सं. वि.) स्पष्ट, स्वच्छ, सफेद,
 सुन्दर, अनुकूल, प्रसन्न; (पुं.) सफेद रंग।
 विशद्व-(सं. वि.) शब्दरहित।
 विशय-(सं. पुं.) संशय, सन्देह।
 विशयी-(सं. वि.) संशययुक्त।
 विशर, विशरण-(सं. पुं.) वध करना,
 मार डालना।
 विशल्य-(सं. वि.) शल्यरहित, चिन्ताशून्य।
 विशस्ति-(सं. स्त्री.) वध, हत्या।
 विशांपति-(सं. पुं.) राजा।
 विशाखं-(सं. पुं.) शिव, कार्तिकेय, एक
 देवता का नाम; (वि.) शाखाहीन।
 विशाखा-(सं. स्त्री.) सत्ताईस नक्षत्रों में
 से सोलहवाँ नक्षत्र।
 विशाय-(सं. पुं.) पहरेदारों का वारी-

वारी से सोना।
 विशारद-(सं. पुं.) किसी विषय का
 अच्छा विद्वान्, दक्ष, कुशल; (वि.)
 श्रेष्ठ, उत्तम, प्रसिद्ध, विद्वान्, अभिमानी।
 विशारदा-(सं. स्त्री.) केंवाच, एक पौधा।
 विशाल-(सं. वि.) विस्तृत और बड़ा,
 लंबा-चौड़ा, भव्य, प्रसिद्ध; -क-
 (पुं.) एक यक्ष का नाम, गरुड, कपिल्य,
 कैथ; -ता-(स्त्री.) विशाल होने का
 भाव।
 विशाला-(सं. स्त्री.) दक्ष की एक कन्या
 का नाम, इन्द्रवारुणी लता।
 विशालाक्ष-(सं. पुं.) विष्णु, शिव,
 महादेव, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम;
 (वि.) बड़ी आँखोंवाला।
 विशालाक्षी-(सं. स्त्री.) चौसठ योगिनियों
 में से एक का नाम, बड़ी-बड़ी आँखों-
 वाली स्त्री, पार्वती।
 विशिका-(सं. स्त्री.) बालू, रेत।
 विशिख-(सं. पुं.) बाण, एक प्रकार की
 घास।
 विशिष्ट-(सं. वि.) विलक्षण, अद्भुत,
 अधिक शिष्ट, यशस्वी, कीर्तिशाली,
 विशेषतायुक्त, मिला हुआ, प्रसिद्ध;
 -ता-(स्त्री.) विशेषता।
 विशिष्टाद्वैत-(सं. पुं.) वह दार्शनिक
 सिद्धान्त जिसके अनुसार जीवात्मा
 और संसार को ब्रह्म से भिन्न होने पर भी
 उससे अभिन्न माना जाता है।
 विशीर्ण-(सं. वि.) जीर्ण, बहुत पुराना,
 सूखा हुआ; -पर्ण-(पुं.) नीम का
 वृक्ष।
 विशीर्ष-(सं. वि.) बिना सिर का।
 विशील-(सं. वि.) बुरे चरित्र का, दुष्ट।
 विशुंडि-(सं. पुं.) कश्यप के एक पुत्र का
 नाम।
 विशुद्ध-(सं. वि.) अति शुद्ध, जिसमें
 किसी प्रकार की मिलावट न हो,
 सच्चा; -चरित्र-(पुं.) शुद्ध आचरण
 करनेवाला; -ता-(स्त्री.) पवित्रता।
 विशुद्धि-(सं. स्त्री.) पवित्रता।
 विशुचिका-(सं. स्त्री.) देखें 'विसुचिका'।
 विशुखल-(सं. वि.) शृंखलारहित,
 जिसमें किसी प्रकार का बंधन न हो।
 विशृंग-(सं. वि.) शृंगरहित, बिना
 सींग का।
 विशेष-(सं. वि.) असाधारण, अधिक;
 (पुं.) अन्तर, भेद, प्रकार, तारतम्य,
 समानता, विचित्रता, नियम, सार, तत्त्व
 अधिकता, वस्तु, पदार्थ, खास गुण

या धर्म, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सात प्रकार के पदार्थों में से एक, साहित्य में वह अलंकार जिसमें विना किसी आधार के आधेय का वर्णन होता है या थोड़ा कार्य करने पर बहुत बड़ा लाभ होना, अथवा किसी एक वस्तु का अनेक स्थानों में होना वर्णन किया जाता है।

विशेषक-(सं. वि.) विशेषता को स्पष्ट करनेवाला; (पुं.) तिलक, साहित्य में वह पद्य जिसमें तीन श्लोकों या पदों की एक ही क्रिया होती है।

विशेषज्ञ-(सं. पुं.) किसी विषय का अच्छा और विशिष्ट जानकार।

विशेषण-(सं. पुं.) वह जो किसी प्रकार की विशेषता प्रकट करता हो, व्याकरण में वह शब्द जो किसी संज्ञा को विशेषता सूचित करता है।

विशेषता-(सं. स्त्री.) विशिष्ट होने का भाव या धर्म, खूबी।

विशेषना-(हिं. क्रि. स.) विशेषता प्रदान करना, निर्णय करना।

विशेषित-(सं. वि.) जो विशेष गुण के आधार पर अलग किया गया हो।

विशेषोक्ति-(सं. स्त्री.) साहित्य में वह अलंकार जिसमें पूर्ण कारण के न रहने पर भी कार्य की सिद्धि का वर्णन किया जाता है।

विशेष्य-(सं. पुं.) व्याकरण में वह संज्ञा जिसके साथ कोई विशेषण लगा रहता है।

विशोक-(सं. वि.) शोकरहित; (पुं.) शोक का अंत, युधिष्ठिर के एक अनुचर का नाम।

विशोधन-(सं. पुं.) विशुद्ध करना।

विशोधिनी-(सं. स्त्री.) नागदंती लता।

विशोधी-(सं. वि.) साफ या शुद्ध करनेवाला।

विशोध्य-(सं. वि.) शोधन करने योग्य।

विशोष-(सं. पुं.) शुष्कता, रूखापन।

विशोषण-(सं. पुं.) अच्छी तरह सोखना।

विश्रंभ-(सं. पुं.) विश्वास, प्रेम, हत्या, इधर-उधर आनन्द से घूमना, प्रेमी और प्रेमिका का रति के समय का झगड़ा।

विश्रब्ध-(सं. वि.) विश्वसनीय, शान्त, निर्भय, निडर; **-नबोदा-**(स्त्री.) वह नवोढा नायिका जिसका अपने पति पर थोड़ा-थोड़ा प्रेम और विश्वास होने लगा हो।

विश्रम-(सं. पुं.) देखें 'विश्राम'।

विश्रयी-(सं. वि.) आश्रय या सहारा लेनेवाला।

विश्रवा-(सं. पुं.) एक प्राचीन ऋषि जो पुलस्त्य मुनि के पुत्र थे।

विश्रांत-(सं. वि.) जिसकी थकावट दूर हो गई हो।

विश्रांति-(सं. स्त्री.) विश्राम, आराम।

विश्राम-(सं. पुं.) थकावट दूर करना, श्रम मिटाना, आराम करना, सुख, ठहरने का स्थान, मकान।

विश्राव-(सं. पुं.) अधिक प्रसिद्धि।

विश्री-(सं. वि.) शोभाहीन, कुरूप, भद्दा।

विश्रुत-(सं. वि.) विख्यात, प्रसिद्ध।

विश्रुतात्मा-(सं. पुं.) विष्णु।

विश्रुति-(सं. स्त्री.) प्रसिद्धि।

विश्लिष्ट-(सं. स्त्री.) अलग किया हुआ, प्रकाशित, विकसित, शिथिल, थका हुआ, मुक्त।

विश्लेष-(सं. पुं.) पृथक् होना, शिथिलता; वियोग, विच्छेद।

विश्लेषण-(सं. पुं.) किसी पदार्थ के संयोजक तत्त्वों को पृथक् करना।

विश्वंभर-(सं. पुं.) परमेश्वर।

विश्वंभरा-(सं. स्त्री.) पृथ्वी।

विश्व-(सं. पुं.) समस्त ब्रह्माण्ड, चौदहों भुवनों का समूह, संसार, शिव, विष्णु, देह, शरीर, जीवात्मा, एक प्रकार का गन्ध-द्रव्य, देवताओं का एक गण जिसके अन्तर्गत दस देवता हैं, यथा-वसु, सत्य, ऋतु, दक्ष, काल, काम, धृति, क्रुच, पुरुखा और माद्रवा; (वि.) समस्त, सर्वव्यापक; **-कथा-**(स्त्री.) संसारसंबंधी कथा; **-कर्ता-**(पुं.) परमेश्वर; **-कर्मजा-**(स्त्री.) सूर्य की पत्नी का नाम; **-कर्मा-**(पुं.) संपूर्ण संसार की रचना करनेवाला, ईश्वर, ब्रह्मा, सूर्य, शिव, बड़ई, थवई, लोहार, एक देवता जो सब प्रकार की शिल्प-कलाओं के अधिष्ठाता माने जाते हैं; **-काय-**(पुं.) विष्णु; **-काया-**(स्त्री.) दुर्गा; **-कारक-**(पुं.) विश्व के कर्ता, शिव; **-कार-**(पुं.) विश्व-कर्मा; **-कूट-**(पुं.) हिमालय की एक चोटी का नाम; **-कृत्-**(पुं.) देखें 'विश्वकर्मा'; **-कोश-**(पुं.) वह ग्रंथ जिसमें ज्ञान के सब अंगों का सारगर्भ विवरण रहता है; **-झय-**(पुं.) प्रलय; **-ग-**(पुं.) ब्रह्मा; **-गत-**(वि.) विश्वव्याप्त; **-गर्भ-**(पुं.) शिव, विष्णु; **-गुरु-**(पुं.) विष्णु; **-चक्षु-**(पुं.) ईश्वर; **-जन्म-**(वि.) विश्व का

हित करनेवाला; **-जयी-**(वि.) विश्व को जीतनेवाला; **-जित्-**(पुं.) वह जिसने संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त की हो; **-तनु-**(पुं.) विष्णु; **-तप्त-**(पुं.) परमेश्वर, विष्णु। **-दासा-**(स्त्री.) अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक का नाम; **-दृश्-**(वि.) सबको देखनेवाला (परमेश्वर); **-देव-**(पुं.) वह देवता जिनकी पूजा नान्दीमुख श्राद्ध में होती है; **-धर-**(पुं.) विष्णु; **-नाथ-**(पुं.) शिव, महादेव, काशी के सर्व-प्रसिद्ध शिवलिंग का नाम; **-नाभ-**(पुं.) विष्णु; **-बाहु-**(पुं.) शिव, महादेव; **-माता-**(स्त्री.) दुर्गा; **-मूली-**(स्त्री.) पार्वती; **-मोहन-**(वि.) सबको मूग्ध करनेवाला; (पुं.) **-योनि-**विष्णु; (पुं.) विश्व का कारण ब्रह्मा; **-रुची-**(स्त्री.) अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक; **-रूप-**(पुं.) शिव, विष्णु, श्री-कृष्ण का वह रूप जो उन्होंने अजुन को गीता का उपदेश सुनते समय दिखलाया था; **-रूपी-**(पुं.) विष्णु; **-लौचन-**(पुं.) सूर्य, चन्द्रमा; **-वास-**(पुं.) संसार, दुनिया; **-विद्-**(पुं.) बहुत बड़ा ज्ञानी; **-विद्यालय-**(पुं.) वह संस्था जिसमें सब प्रकार की विद्याओं की उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है; **-विघाता-**(पुं.) सृष्टिकर्ता; **-विभावन-**(पुं.) संसार का प्रतिपालक; **-विश्रुत-**(वि.) संसार में प्रसिद्ध; **-विश्व-**(पुं.) ईश्वर; **-वृक्ष-**(पुं.) विष्णु; **-व्यापी-**(वि.) जो सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हो; **-श्रवा-**(पुं.) एक ऋषि जो कुबेर, रावण आदि के पिता थे; **-सत्तम-**(पुं.) श्रीकृष्ण; **-सू-**(वि.) ईश्वर; **-सृज्-**(पुं.) ब्रह्मा, जगदीश्वर; **-सृष्टि-**(स्त्री.) संसार की सृष्टि; **-हेतु-**(पुं.) विष्णु।

विश्वसन-(सं. पुं.) विश्वास।

विश्वसनीय-(सं. पुं.) विश्वास करने योग्य।

विश्वसित-(सं. वि.) विश्वासपूर्ण, विश्वस्त।

विश्वस्त-(सं. वि.) विश्वसनीय।

विश्वत्मा-(सं. पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, शिव।

विश्वधार, **विश्वधिप-**(सं. पुं.) परमेश्वर।

विश्वामित्र-(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि जो क्षत्रिय थे, (इतका नाम गायत्रि, गाथेय और कौशिक भी था।)

विश्वामन-(सं. पुं.) विश्वामित्र, ब्रह्म।

विश्वावसु—(सं. पुं.) एक गन्धर्व का नाम, विष्णु, एक संवत्सर का नाम; (स्त्री.) रात ।

विश्वास—(सं. पुं.) किसी विषय में होनेवाली विशिष्ट धारणा, भरोसा; -कारक—(वि.) मन में विश्वास उत्पन्न करनेवाला; -घात—(पुं.) विश्वास करनेवाले के साथ धोखा छल करना; -पात्र—(वि., पुं.) (वह) जिस पर भरोसा किया जाय; -स्थान—(पुं.) विश्वासपात्र ।

विश्वासन—(सं. पुं.) विश्वास उत्पन्न करना ।

विश्वासिक—(सं. वि.) विश्वास के योग्य ।

विश्वासी—(सं. पुं. वि.) विश्वास करनेवाला, वह जिस पर विश्वास किया जाय ।

विश्वेदेव—(सं. पुं.) अग्नि, देवताओं का एक गण जिसमें इन्द्रादि नौ देवता माने जाते हैं ।

विश्वेश—(सं. पुं.) शिव, विष्णु, उत्तरापाड़ा नक्षत्र ।

विश्वेश्वर—(सं. पुं.) शिव की एक मूर्ति का नाम ।

विषंड—(सं. पुं.) मृणाल, कमल की नाल ।

विष—(सं. पुं.) वह पदार्थ जो प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट होने पर प्राण ले लेता अथवा स्वास्थ्य नष्ट कर देता है, गरल, वल्लनाग, कलियारी; (मूहा.) -कीर्ण—अनेक प्रकार के उपद्रव खड़ा करनेवाला; -कंठ—(पुं.) महादेव; -कन्या—(स्त्री.) वह स्त्री जिसके साथ संभोग करने पर मनुष्य मर जाता है; -कृत—(वि.) विष मिला हुआ; -घ्न—(वि.) विष कानाश करनेवाला; -घ्नी—(स्त्री.) वनतुलसी, भूम्यामलकी, हल्दी, अपामार्ग; -चक्र—(पुं.) चक्रोपक्षी; -जल—(पुं.) विपैला पानी; -जुष्ट—(वि.) विष मिला हुआ; -तंत्र—(पुं.) -विद्या—(स्त्री.) सर्पादि का विष दूर करने की चिकित्सा; -दंतक—(पुं.) सर्प; -डुष्ट—(वि.) विष-मिश्रित; -द्रुम—(पुं.) कुचले का वृक्ष; -धर—(पुं.) सर्प, साँप; -नाशक—(वि.) विष को दूर करनेवाला; -पन्नग—(पुं.) विपैला साँप; -पुच्छ—(पुं.) विच्छू; -पुष्प—(पुं.) विपैला फूल; -पुष्क—(पुं.) मैनफल; -भिषज्—, -वैद्य—(पुं.) विष की चिकित्सा करनेवाला-भुजंग—(पुं.) विपैला साँप; -मंत्र—(पुं.) वह जो विष उतारने का मन्त्र जानता हो; -मय—(वि.) जहरीला ।

विषण्ण—(सं. वि.) चिन्तित, दुःखी ।

विषण्णता—(सं. स्त्री.) उदासी ।

विषम—(सं. वि.) जो समान या बराबर न हो, (वह संख्या) जो २ से बराबर विभाज्य न हो, ताक, बहुत तीव्र, अति कठिन, भयंकर; (पुं.) संगीत में एक प्रकार का ताल, संकट, विपत्ति, वह वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में बराबर या समसंख्यक अक्षर न हों, वह अर्थालंकार जिसमें दो विरोधी वस्तुओं का संबंध वर्णन किया जाता है; -क—(वि.) असमान, जो बराबर न हो; -कर्ण—(पुं.) असमान कर्णवाला-चतुर्भुज; -कर्म—(पुं.) असाधारण कार्य; -कोण—(पुं.) समकोण से बड़ा कोण; -खात—(पुं.) वह गड्ढा जिसके चारों किनारे बराबर न हों; -चतुरस्र—(पुं.) वह असमान बाहुओं का चतुष्कोण-क्षेत्र जिसके आमने-सामने की भुजाएँ समानान्तर हों; -चतुष्कोण—(पुं.) विषम भुजाओंवाला चतुष्कोण-क्षेत्र; -ज्वर—(पुं.) वह ज्वर जो प्रतिदिन आता हो, परन्तु इसके आने का कोई नियत समय न हो. तथा तापमान भी प्रतिदिन समान न हो; -ता—(स्त्री.) असमानता, द्रोह, वैर; -त्रिभुज—(पुं.) वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ समान न हों; -द्वलक—(पुं.) वह सीप जिसके दोनों दल समान न हों; -नयन—, -नेत्र—(पुं.) शिव, महादेव; -राशि—(स्त्री.) अयुग्म राशियाँ; यथा—मेघ, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुम्भ; -रूप—(वि.) जो समरूप का न हो; -वल्कल—(पुं.) नारंगी, नीबू; -विभाग—(पुं.) असमान अंश; -वृत्त—(पुं.) वह छन्द जिसके चरण समान न हों; -वेग—(पुं.) वेग जो न्यूनाधिक हो; -शील—(वि.) उद्धत, उद्दंड; -साहस—(पुं.) बहुत साहस ।

विषमाक्ष—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

विषमायुध—(सं. पुं.) कामदेव ।

विषमेक्षण—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

विषमेपु—(सं. पुं.) कामदेव ।

विषय—(सं. पुं.) वह जिस पर कुछ विचार किया जाय, सम्पत्ति, भौतिक आनंद, देश, राज्य, स्त्री-सम्भोग, मैथुन; -क—(वि.) विषय-संबंधी; -कर्म—(पुं.) सांसारिक कार्य; -ता—(स्त्री.), -त्व—(पुं.) विषय में लिप्त होने का भाव या धर्म; -पति—(पुं.) राजा या शासक; -वासी—(वि.) जनपदवासी ।

विषयांत—(सं. पुं.) देश की सीमा ।

विषयात्मक—(सं. वि.) विषय-संबंधी ।

विषयाधिप—(सं. पुं.) शासन करनेवाला ।

विषयी—(सं. वि.; पुं.) कामदेव, विलासी, कामी, धनवान् ।

विषयेन्द्रिय—(सं. पुं.) नाक, कान आदि इन्द्रियाँ ।

विषाङ्कुर—(सं. पुं.) विपावत शल्य, तीर ।

विषाङ्गना—(सं. स्त्री.) विप-कन्या ।

विषाङ्कल—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

विषा—(सं. स्त्री.) कलियारी, कड़वी तरौई ।

विषादत—(सं. वि.) विषयुक्त ।

विषाग्रज—(सं. पुं.) तलवार ।

विषाण—(सं. पुं.) हाथी का दाँत, पशु का सीप, सूअर का दाँत, इमली ।

विषाद—(सं. पुं.) दुःख, खेद, निश्चेष्ट होने का भाव, मूर्खता ।

विषादी—(सं. वि., पुं.) (वह) जिसको विषाद हो ।

विषाङ्ग—(सं. पुं.) विष मिला हुआ भोजन ।

विषापदादी—(सं. वि.) विष दूर करने के लिए मंत्र का प्रयोग करनेवाला ।

विषापह—(सं. वि.) विषनाशक ।

विषायुध—(सं. पुं.) विष में बुझाया हुआ अस्त्र, सर्प, साँप ।

विषास्त्र—(सं. पुं.) देखें 'विषायुध' ।

विषुव—(सं. पुं.) ज्योतिष के अनुसार वह काल जब सूर्य विषुवत् रेखा पर पहुँचता है और दिन-रात बराबर होते हैं, (ऐसा समय वर्ष में दो बार आता है । २१ मार्च तथा २२ सितम्बर को दिन-रात बराबर होते हैं ।)

विषुवत् रेखा—(सं. स्त्री.) वह कल्पित रेखा जो पृथ्वी से तल पर उसके दोनों ध्रुवों से समदूरस्थ भाग की परिधिस्वरूप खींची हुई मानी जाती है ।

विषुचिका—(सं. स्त्री.) देखें 'विसुचिका' ।

विष्कंभ—(सं. पुं.) फलित ज्योतिष के अनुसार सत्ताईस योगों में से पहला योग, विस्तार, विघ्न, नाटक का वह अंक जिसमें मध्यम पात्रों द्वारा कथानक की प्रगति की सूचना दी जाती है, वृक्ष, अर्गल ।

विष्कंभक—(सं. पुं.) देखें 'विष्कंभ' ।

विष्कंभी—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

विष्कर—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, अर्गल ।

दिष्कलन—(सं. पुं.) भोजन, आहार ।

विष्टंभ—(सं. पुं.) वाधा, रुकावट, आक्रमण, चढ़ाई ।

विष्टभन—(सं. पुं.) रोकने या संकुचित करने की क्रिया ।
 विष्टय—(सं. पुं.) स्वर्गलोक ।
 विष्टर—(सं. पुं.) कुश का बना हुआ आसन ।
 विष्टि—(सं. स्त्री.) विना पुरस्कार का काम, वेगार, वेतन ।
 विष्टा—(सं. स्त्री.) मन्, गू-भुक्—(पुं.) शूकर, सूअर ।
 विष्णु—(सं. पुं.) हिन्दुओं के एक बहुत बड़े, प्रधान देवता जो सृष्टि के पालन-पोषण करनेवाले माने जाते हैं, अग्नि, वारह आदित्यों में से पहला आदित्य; —क्रांती—(स्त्री.) दक्षिण का एक प्राचीन तीर्थ; —क्रांति—(पुं.) संगीत में एक प्रकार का ताल; —क्रांता—(स्त्री.) नीली अपराजिता लता; —गुप्त—(पुं.) प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य का नाम, बड़ी मूली; —चक्र—(पुं.) सुदर्शन चक्र; —तिथि—(स्त्री.) एकादशी और द्वादशी तिथियाँ; —पत्नी—(स्त्री.) लक्ष्मी; —पदी—(स्त्री.) गंगा नदी जो विष्णु के पैरों से निकली हुई मानी जाती है; —पुरी—(स्त्री.) वैकुण्ठ; —प्रिया—(स्त्री.) लक्ष्मी, तुलसी; —माया—(स्त्री.) दुर्गा; —लोक—(पुं.) वैकुण्ठ; —बाहन—(पुं.) गरुड़ ।
 विष्टक्—(सं. वि., पुं.) (वह) जो सर्वत्र व्याप्त हो ।
 विष्टक्सेन—(सं. पुं.) विष्णु का एक नाम ।
 विष्टग्वात—(सं. पुं.) सब ओर से वहनेवाली वायु ।
 विष्टचारी—(सं. वि.) विषयभोगी ।
 विष्टज्ञ—(सं. वि.) संज्ञाशून्य ।
 विष्टशय—(सं. वि.) संशयरहित ।
 विष्टदृश—(सं. वि.) विपरीत, विरुद्ध, अद्भुत ।
 विष्टम—(हिं. वि.) देखें 'विषम'; —ता—(स्त्री.) देखें 'विषमता' ।
 विष्टयना—(हिं. क्रि. अ.) अस्त होना ।
 विष्टरण—(सं. पुं.) विस्तार, फैलाव ।
 विष्टगं—(सं. पुं.) त्याग, दान, शौच, मोक्ष, दीप्ति, चमक, वियोग, वर्णमाला में वह वर्ण (:) जिसका उच्चारण आवे "ह" के समान होता है, प्रलय ।
 विष्टगिक—(सं. वि.) आकर्षण करनेवाला, त्यागनेवाला ।
 विष्टर्गो—(सं. वि.) त्यागनेवाला, दान देनेवाला ।
 विष्टर्जन—(सं. पुं.) परित्याग, विदा होना,

प्रतिभा का नदी आदि में बहाया जाना, पूजन आदि में अन्तिम उपचार, समाप्ति ।
 विष्टर्ष—(सं. पुं.) एक रोग जिसमें ज्वर के साथ सारे शरीर में फुंसियाँ निकल आती हैं ।
 विष्टर्षण—(सं. पुं.) फैलना, फेंकना ।
 विष्टर्गो—(सं. वि.) फैलनेवाला ।
 विष्टल—(सं. पुं.) वृक्ष का नया पत्ता ।
 विष्टार—(सं. पुं.) विस्तार, फैलाव, प्रवाह ।
 विष्टारित—(सं. वि.) फैलाया हुआ ।
 विष्टाल—(हिं. वि.) देखें 'विशाल' ।
 विष्टचिका—(सं. स्त्री.) हैजा नामक रोग ।
 विष्टरण—(सं. पुं.) दुःख, चिन्ता ।
 विष्टर्ष—(सं. वि.) सूर्यरहित ।
 विष्टत—(सं. वि.) विस्तृत, चौड़ा, निर्गत, निकाला हुआ, कहा हुआ ।
 विष्टृ—(सं. वि.) त्यागा हुआ, फेंका हुआ ।
 विष्टीम—(सं. वि.) चन्द्रशून्य ।
 विष्टीरभ—(सं. वि.) दुर्गन्ध, गन्धरहित ।
 विष्टर—(सं. पुं.) देखें 'विस्तार', आधार, समूह, आसन; (वि.) प्रभूत, अधिक; —ता—(स्त्री.) अधिक होने का भाव ।
 विष्टार—(सं. पुं.) लंबा-चौड़ा होने का भाव, फैलाव, विशालता, पेड़ की शाखा ।
 विष्टारित—(सं. वि.) फैलाया हुआ ।
 विष्टारी—(सं. पुं.) बरगद का वृक्ष ।
 विष्टीर्ग—(सं. वि.) विस्तृत, विशाल, विपुल, बहुत बड़ा; —ता—(स्त्री.) विपुलता, फैलाव, विस्तृति ।
 विष्टत—(सं. वि.) लंबा-चौड़ा, विशाल, विस्तारवाला ।
 विष्टृति—(सं. स्त्री.) विस्तार, फैलाव ।
 विष्टफार—(सं. पुं.) घनुप की टंकार, कम्प, स्फूर्ति ।
 विष्टफरित—(सं. वि.) अस्थिर, चंचल ।
 विष्टफूर्लंग—(सं. पुं.) आग की चिनगारी ।
 विष्टर्जन—(सं. पुं.) किसी पदार्थ का फैलना या बढ़ना ।
 विष्टफोट—(सं. पुं.) किसी पदार्थ का तेज आवाज के साथ फूटना, विपैला फोड़ा ।
 विष्टफोटक—(सं. पुं.) शीतला रोग, चेचक ।
 विष्टफोटन—(सं. पुं.) घड़ाके का शब्द ।
 विष्टमय—(सं. पुं.) आश्चर्य, अभिमान, गर्व, साहित्य में अद्भुत रस का स्थायी भाव जो विलक्षण पदार्थ के वर्णन से चित्त में उत्पन्न होता है ।
 विष्टमयनीय—(सं. वि.) विस्मय के योग्य ।
 विष्टमयान्वित—(सं. वि.) आश्चर्ययुक्त ।
 विष्टमरण—(सं. पुं.) स्मरण न रखना, भूल जाना ।

विष्टमारक—(सं. वि.) भूलानेवाला ।
 विष्टमित—(सं. वि.) आश्चर्ययुक्त, चकित ।
 विष्टमृत—(सं. वि.) जो याद न हो, भूला हुआ ।
 विष्टमृति—(सं. स्त्री.) विष्टमरण, भूल जाना ।
 विष्टभ—(सं. पुं.) विश्वास ।
 विष्टवण—(सं. पुं.) क्षरण, बहना, झरना ।
 विष्टाव्य—(सं. वि.) वहाने योग्य ।
 विष्टुत—(सं. वि.) बहा हुआ ।
 विष्टवन—(सं. वि.) शब्द, ध्वनि ।
 विष्ट्राम—(हिं. पुं.) देखें 'विश्राम' ।
 विष्टंग—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, वाण, तीर, मेघ, बादल, चन्द्रमा, सूर्य ।
 विष्टंगम—(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, सूर्य ।
 विष्टंगमा—(सं. स्त्री.) सूर्य की एक किरण, वहंगी की लकड़ी ।
 विष्टंगराज—(सं. पुं.) गरुड़ ।
 विष्टंगिका—(सं. स्त्री.) वहंगी ।
 विष्टता—(सं. पुं.) नाश करनेवाला ।
 विष्टसन—(हिं. क्रि. अ.) मुसकाना ।
 विष्टद—(सं. वि.) विफल, टूटा हुआ ।
 विष्टति—(सं. स्त्री.) नाश, ध्वंस, विफलता ।
 विष्टनत—(सं. पुं.) हिंसा, हत्या ।
 विष्टर—(सं. पुं.) हरण, विछोह ।
 विष्टरण—(सं. पुं.) घूमना-फिरना, फैलाना ।
 विष्टसित—(सं. पुं.) मंत्र हास, मुसकुराहट ।
 विष्टस्त—(सं. वि.) व्याकुल, घबड़ाया हुआ, विना हाथ का ।
 विष्टाग—(हिं. पुं.) एक राग ।
 विष्टायस—(सं. पुं.) आकाश, पक्षी, चिड़िया ।
 विष्टार—(सं. पुं.) रति-क्रीड़ा, संभोग, संभोग करने का स्थान, वीटों का मठ, क्रीड़ा, मनोरंजन के लिये इधर-उधर घूमना ।
 विष्टारक—(सं. वि.) विष्टार करनेवाला ।
 विष्टारण—(सं. पुं.) विष्टार, क्रीड़ा ।
 विष्टारस्थान—(सं. पुं.) क्रीड़ा-भूमि ।
 विष्टारी—(सं. वि., पुं.) विष्टार करनेवाला, श्रीकृष्ण का एक नाम ।
 विष्टात—(सं. वि.) मुसकान ।
 विष्टासक—(सं. वि.) नाश करनेवाला ।
 विष्टित—(सं. वि.) किया हुआ, दिया हुआ, विधान किया हुआ, युक्त, करने योग्य ।
 विष्टीन—(सं. वि.) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, रहित ।
 विष्टीनता—(सं. स्त्री.) विष्टीन होने का भाव ।
 विष्टृति—(सं. स्त्री.) विष्टार, क्रीड़ा ।
 विष्टल—(सं. वि.) व्याकुल, घबड़ाया हुआ; —ता—(स्त्री.) व्याकुलता ।
 विष्टली—(सं. पुं.) वह जो बहुत घबड़ा गया हो ।
 वीक्षण—(सं. पुं.) निरीक्षण, देखने की क्रिया ।

वीक्षणीय—(सं. वि.) दर्शनीय, देखने योग्य ।
 वीक्षा—(सं. स्त्री.) देखने की क्रिया ।
 वीक्षित—(सं. वि.) अच्छी तरह देखा हुआ ।
 वीचि—(सं. स्त्री.) तरंग, लहर, दीप्ति, चमक ।
 वीचिमाली—(सं. पुं.) समुद्र ।
 वीची—(सं. स्त्री.) तरंग, लहर ।
 वीज—(सं. पुं.) शुक्र, वीर्य, मूल कारण, तत्त्व, मूल, मज्जा, बीया, अकुर, तेज, निधि, फल, तन्त्र के अनुसार किसी मन्त्र का मूल-तत्त्व; -क—(हिं. पुं.) देखें 'वीजक'; -का—(स्त्री.) मुनक्का; -कोश—(पुं.) कमलगट्टा, सिंघाड़ा, वह कोश जिसमें बीज रहते हैं; -गणित—(पुं.) वह गणित जिसमें अज्ञात राशियों के लिये अक्षरों का प्रयोग होता है; -गर्भ—(पुं.) परवल; -धान्य—(पुं.) वनिया; -पुरुष—(पुं.) आदिपुरुष; -वर—(पुं.) उड़द, माप; -वाहन—(पुं.) शिव, महादेव ।
 वीजन—(सं. पुं.) व्यजन, पंखा ।
 वीजोदक—(सं. पुं.) आकाश से गिरने-वाला ओला, बिनौरी ।
 वीटिका, वीटी—(सं. स्त्री.) नागवल्ली, पान का बीड़ा ।
 वीणा—(सं. स्त्री.) सितार जैसा एक प्रसिद्ध वाजा, वीन; -पाणि—(स्त्री.) सरस्वती; -वती—(स्त्री.) एक अप्सरा का नाम, सरस्वती; -हस्त—(पुं.) शिव, महादेव ।
 वीत—(सं. वि.) परित्यक्त, छोड़ा हुआ, मुक्त, समाप्त, निवृत्त, सुन्दर, जो वीत गया हो; -दंभ—(वि.) जिसने अहंकार त्याग दिया हो; -भय—(वि.) जिसका भय दूर हो गया हो; -मल—(वि.) पापरहित, कलंकरहित, विमल; -राग—(वि.) निस्पृह; (पुं.) बुद्ध का एक नाम; -शोक—(वि.) जिसने शोक आदि का त्याग किया हो; -सूत्र—(पुं.) यज्ञोपवीत ।
 वीति—(सं. स्त्री.) गति, चाल, दीप्ति, चमक, गर्भ-धारण करने की क्रिया; -होत्र—(पुं.) अग्नि, सूर्य, यज्ञ करनेवाला ।
 वीथिका, वीथी—(सं. स्त्री.) मार्ग, सड़क, रविमार्ग, जिस मार्ग से सूर्य आकाश में चलता है, आकाश में नक्षत्रों का स्थान, दृश्य-काव्य अथवा रूपक का एक भेद जिसमें एक ही नायक होता है और जो एक ही अंक का होता है ।
 वीथ्यंग—(सं. पु.) रूपक में वीथी का एक अंग ।

वीनाह—(सं. पुं.) कुएँ के ऊपर का ढपना ।
 वीप्सा—(सं. स्त्री.) व्याप्ति, एक काव्या-लंकार ।
 वीर—(सं. वि.) साहसी और बलवान्, शूर, श्रेष्ठ, चतुर; (पुं.) योद्धा, यज्ञ की अग्नि, खस, काँजी, कुश, अर्जुन वृक्ष, कनेर, आलूबोखारा, तान्त्रिकों के अनुसार सावना के तीन भावों में से एक, पति, पुत्र, भाई, विष्णु, एक दैत्य का नाम, साहित्य में एक रस जिससे वीरता, उत्साह आदि की पुष्टि होती है; -कर्मा—(वि. पुं.) वीरोचित कार्य करनेवाला; -काम—(वि.) पुत्र की कामना करने-वाला; -कुक्षि—(स्त्री.) वह स्त्री जो वीर पुत्र की जननी है; -केशरी—(पुं.) वीरों में अति श्रेष्ठ योद्धा; -गति—(स्त्री.) वह उत्तम गति जो वीरों को रणक्षेत्र में मरने पर प्राप्त होती है; -तरु—(पुं.) अर्जुन वृक्ष; -ता—(स्त्री.) शूरता; -धन्वा—(पुं.) कन्दर्प, कामदेव; -प्रसू—(स्त्री.) वह स्त्री जो वीर सन्तान उत्पन्न करनेवाली हो; -बाहु—(पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; -भद्र—(पुं.) अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, शिव के एक प्रसिद्ध गण, उशीर, खस; -भुक्ति—(स्त्री.) वीरभूमि जिले का प्राचीन नाम; -मर्दल—(पुं.) प्राचीन काल का एक ढोल जो युद्ध में बजाया जाता था; -माता—(स्त्री.) वह स्त्री जिसका पुत्र वीर हो; -मार्ग—(पुं.) स्वर्ग; -रेणु—(पुं.) भीमसेन; -ललित—(वि.) वीर तथा कोमल स्वभाव का; -लोक—(पुं.) स्वर्ग; -वर—(वि.) अति वीर; -वृक्ष—(पुं.) भिलावाँ, अर्जुन वृक्ष; -व्रत—(वि.) वृद्ध-संकल्प; -शय्या—(स्त्री.) रणभूमि; -शव—(पुं.) शिव के उपासकों का एक भेद; -स्थान—(पुं.) स्वर्गलोक ।
 वीरान्तक—(सं. वि.) वीरों का नाश करनेवाला ।
 वीरा—(सं. स्त्री.) सुरा, विदारीकन्द, वह स्त्री जिसका पति और पुत्र जीवित हो ।
 वीराचारी—(सं. पुं.) एक प्रकार के वाममार्गी जो मद्यादि में देवता की कल्पना करते हैं ।
 वीरान—(फा.वि.) निर्जन, उजाड़, ऊसर, सुनसान ।
 वीराष्टक—(सं. पुं.) कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम ।
 वीरासन—(सं. पुं.) सावकों का एक

विशिष्ट प्रकार का आसन ।
 वीरेश, वीरेश्वर—(सं. पुं.) महादेव, बड़ा योद्धा ।
 वीर्य—(सं. पुं.) शुक्र, रेत, बीज, इन्द्रिय, पराक्रम, बल, शक्ति; -ज—(पुं.) पुत्र; -तम—(वि.) अति पराक्रमी; -हारी—(पुं.) एक यक्ष का नाम ।
 वीहार—(सं. पुं.) देखें 'विहार' ।
 वृत्—(सं. पुं.) फल के ऊपर की ढेंपी, ढेंड़ी, बौड़ी, स्तन का अगला भाग, वैगन ।
 वृंद—(सं. पुं.) समूह; (पुं.) सौ करोड़ की संख्या ।
 वृंदा—(सं. स्त्री.) तुलसी, राधा का एक नाम ।
 वृंदारक—(सं. वि.) सुन्दर, मनोहर ।
 वृंदावन—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण के क्रीड़ा-वन का नाम ।
 वृंहण—(सं. वि.) पुष्टिकारक; (पुं.) मुनक्का ।
 वृंहित—(सं. पुं.) हाथी का चिंचाड़ ।
 वृक—(सं. पुं.) मेड़िया, हुँडार, सियार, चोर, वज्र, अगस्त्य का वृक्ष; -दीप्ति—(पुं.) कृष्ण के एक पुत्र का नाम; -धूर्त—(पुं.) शृगाल, सियार; -रथ—(पुं.) कर्ण के एक भाई का नाम ।
 वृकोदर—(सं. पुं.) भीमसेन ।
 वृक्क—(सं. पुं.) गुरदा ।
 वृक्कल—(सं. पुं.) मूत्राशय ।
 वृक्का—(सं. स्त्री.) हृदय ।
 वृक्ष—(सं. पुं.) पेड़, पादप, विटप, कोई बड़ा क्षुप; -क—(पुं.) छोटा पेड़; -चर—(पुं.) बंदर; -नाथ—(पुं.) वरगद का पेड़; -राज—(पुं.) पीपल का पेड़, परजाता; -स्नेह—(पुं.) गोंद, लासा ।
 वृक्षाधुवद—(सं. पुं.) वृक्षों के रोगों का चिकित्सा-शास्त्र ।
 वृज—(हिं. पुं.) देखें 'व्रज' ।
 वृजन—(सं. पुं.) आकाश, संग्राम, पाप, बल, शक्ति, बाल ।
 वृजिन—(सं. पुं.) पाप, दुःख, कष्ट; (वि.) कुटिल, टेढ़ा ।
 वृत्—(सं. वि.) नियुक्त, आच्छादित, स्वीकृत ।
 वृत्त—(सं. पुं.) चरित्र, वार्ता, स्तन के आगे का भाग, समाचार, वृत्तांत, कछुआ, अंजीर, प्रवृत्ति, एक वणिक् छन्द जिसके प्रत्येक पद में अक्षरों की संख्या तथा गुरु-लघु वर्णों के क्रम का नियम रहता है, गोल परिधि का क्षेत्र, मण्डल; (वि.) पूरा किया हुआ, दृढ़, पुष्ट,

गोल, वर्तुल, मरा हुआ, ढँपा हुआ;
-ककंदी-(स्त्री.) खरबूजा; -खंड-(
पुं.) वृत्त का कोई खण्ड, कमान;
-चेष्टा-(स्त्री.) स्वभाव, प्रकृति;
-पुष्प-(पुं.) -मल्लिका-(स्त्री.)
मोतिया; -फल-(पुं.) कैय; -श्लाघी-
(वि.) जिसको अपने काम का गर्व हो;
-सादी-(वि.) कुलनाशक; -स्य-
(वि.) सदाचारी ।

वृत्तानुवर्ती-(सं. वि.) सदाचारी ।
वृत्तांत-(सं. पुं.) समाचार, प्रस्ताव,
किसी वीती हुई घटना का विवरण ।
वृत्ति-(सं.स्त्री.) जीविका, व्यवहार, चित्त
की विशेष अवस्था, व्यापार, व्याख्या,
संहार करने का एक प्रकार का शस्त्र,
कार्य, व्यापार, किसी दीन विद्यार्थी आदि
को उसकी सहायता के निमित्त दिया जाने-
वाला धन, शब्द-शक्ति (अभिधा आदि);
-कार-(पुं.) वह जिसने किसी सूत्र-
ग्रंथ पर वृत्ति लिखी हो ।

वृत्त्यानुप्रास-(सं. पुं.) शब्दालंकार का
एक भेद जिसमें एक ही व्यंजन वर्ण
बारंबार प्रयोग किया जाता है ।

वृत्त्युपाय-(सं. पुं.) अपने कुटुम्ब के भरण-
पोषण का उपाय ।

वृत्र-(सं. पुं.) अन्धकार, शत्रु, एक दानव
जिसको इन्द्र ने मारा था, (इसको मारने
के लिये दधीचि ऋषि की हड्डियों का
वज्र बनाया गया था), मेघ, बादल;
-घ्न-(पुं.) इन्द्र; -घ्नी-(स्त्री.)
सरस्वती नदी; -त्व-(पुं.) शत्रुता;
-नाशन-(पुं.) इन्द्र ।

वृत्रासुर-(सं. पुं.) देखें 'वृत्र' ।

वृथा-(सं. वि., अव्य.) व्यर्थ, निरर्थक,
निष्फल ।

वृद्ध-(सं. वि.) जीर्ण, जर्जर, बुढ़ा,
विद्वान्, पण्डित; -काल-(पुं.) बुढ़ापा;
-त्ता-(स्त्री.) बुढ़ापा; -त्व-(पुं.)
बुढ़ापा; -नाभि-(वि.) तोंडीला;
-पुवती-(स्त्री.) कुटनी, दाई;
-श्रवा-(पुं.) इन्द्र; -सूचक-(पुं.)
कपास ।

वृद्धा-(सं. स्त्री.) बुढ़ी स्त्री ।

वृद्धि-(सं. स्त्री.) अष्ट-वर्ग के अन्तर्गत
एक औपचि, अधिकता, बढ़ती, समृद्धि,
सूद, परिवार में सन्तान उत्पन्न होने पर
लगनेवाला अशौच; -जीवक-(वि.)
सूदखोर; -मत्(मान्)-(वि.) अंकुरित,
बढ़ा हुआ; -योग-(पुं.) फलित ज्योतिष
का एक योग ।

वृश्चिक-(सं. पुं.) शूक, कीट, विच्छ्र,
मेघादि बारह राशियों में से आठवीं
राशि का नाम ।

वृश्चिकाली-(सं. स्त्री.) एक लता जिसके
पत्तों पर महीन रोये होते हैं, जिसके
स्पर्श होने से बड़ी जलन होती है ।

वृष-(सं. पुं.) बैल, साँड़, मेघादि राशियों
में से दूसरी राशि, श्रीकृष्ण, कामशास्त्र
के अनुसार चार प्रकार के पुरुषों में से
एक, बलवान् मनुष्य, मोर का पंख;
-केतन-(पुं.) वृषध्वज, शिव, गणेश;
-केतु-(पुं.) शिव, कर्ण के एक पुत्र का
नाम; -ऋतु-(पुं.) इन्द्र; -ण-(पुं.)
अण्डकोप, इन्द्र, कर्ण, साँड़; -दध-
(पुं.) श्रीकृष्ण का एक नाम; -ध्वज-
(पुं.) शिव, महादेव, गणेश; -न-
(पुं.) इन्द्र, कर्ण, विष्णु; -भानु-
(पुं.) श्रीराधिका के पिता ।

वृषभ-(सं. पुं.) बैल, साँड़, वीर या
श्रेष्ठ मनुष्य, कामशास्त्र के अनुसार
चार प्रकार के पुरुषों में से एक, कान का
छेद, विष्णु, साहित्य में वैदर्भी रीति का
एक भेद; -केतु-(पुं.) शिव; -ध्वज-
(पुं.) शिव, महादेव; -पल्लव-(पुं.)
अड़से का वृक्ष ।

वृषभेक्षण-(सं. पुं.) विष्णु ।

वृषल-(सं. पुं.) शूद्र, घोड़ा, सम्राट् चन्द्रगुप्त
का नाम, पाप-कर्म करनेवाला व्यक्ति ।

वृषली-(सं. स्त्री.) अविवाहिता कन्या जो
रजस्वला हो गई हो, वह स्त्री जो अपने
पति को त्यागकर पर-पुरुष से प्रेम
करती हो, शूद्रा, पापी या नीच स्त्री,
ऋतुमती स्त्री ।

वृषा-(सं. स्त्री.) मूसाकानी नाम की
लता, गाय ।

वृषाणक-(सं. पुं.) शिव के एक अनुचर
का नाम ।

वृषायण-(सं. पुं.) गौरैया चिड़िया ।

वृषोत्सर्ग-(सं. पुं.) शास्त्रीय विविपूर्वक
साँड़ को दागकर छोड़ना ।

वृष्टि-(सं. स्त्री.) मेघों से जल-विंदुओं का
टपकना, वर्षण, वर्षा, बहुत-सी वस्तुओं
का ऊपर से गिराया जाना; -जीवन-
(पुं.) चातक पक्षी; -भू-(पुं.) मण्डूक,
मेढक ।

वृष्णि-(सं. पुं.) भेष, यादव, यदुवंश,
धीकृष्ण, वायु, अग्नि, इन्द्र, साँड़; (वि.)
उग्र, प्रचण्ड; -गभ-(पुं.) श्रीकृष्ण ।
वृष्य-(सं. पुं.) वे पदार्थ जिनके सेवन
से वीर्य की वृद्धि होती है; (वि.)

चित्त को प्रसन्न करनेवाला, कामोद्दीपक ।
वृष्या-(सं. स्त्री.) सतावर, केंवाच,
विदारीकन्द ।

वृहच्छद-(सं. पुं.) अखरोट ।

वृहत्-(सं. वि.) विपुल, बड़ा, महान्, भारी ।

वृहती-(सं. स्त्री.) उत्तरीय वस्त्र, दुपट्टा,
वनमंटा, वाक्य, एक प्रकार का छन्द
जिसके प्रत्येक चरण में नौ मात्राएँ
होती हैं, महती; -पति-(पुं.) बृहस्पति ।

वृहत्पाद-(सं. पुं.) वरगद का वृक्ष ।

वृहत्फल-(सं. पुं.) जामुन, कटहल ।

वृहद्भानु-(सं. पुं.) सूर्य, अग्नि, सत्य-
भामा के एक पुत्र का नाम ।

वृहद्भय-(सं. पुं.) इन्द्र, यज्ञपात्र, मौर्य
राज-वंश के अन्तिम राजा का नाम ।

वृहद्वावी-(सं. पुं.) उल्लू पक्षी ।

वृहन्नल-(सं. पुं.) बाहु, बाँह, अर्जुन ।

वृहन्नला-(सं. स्त्री.) अर्जुन का उस समय
का नाम जब वह अज्ञात-वास के समय
स्त्री-वेष में रहकर राजा विराट् की
कन्या को नाचना-गाना सिखाते थे ।

वृहस्पति-(सं. पुं.) अंगिरा के पुत्र जो
देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति ।

वे-(हि. सर्व.) "वह" शब्द का बहुवचन ।

वेक्षण-(सं. पुं.) अच्छी तरह से खोजना
या हँदना ।

वेग-(सं. पुं.) प्रवाह, धारा, बहाव, शूक्र,
मूत्र, विष्ठा आदि के निर्गम की प्रवृत्ति,
त्वरा, शीघ्रता, वृद्धि, उद्यम, प्रवृत्ति,
प्रसन्नता, आनन्द; -ग-(वि.) वेग
से चलनेवाला; -चान्-(वि.) वेग से
चलनेवाला; -वाहिनी-(स्त्री.) गंगा;
-सर-(पुं.) वेग से चलनेवाला घोड़ा ।

वेगानिल-(सं. पुं.) प्रबल वायु ।

वेगो-(सं. वि.) वेगवान्, जिसमें बहुत
वेग हो ।

वेड़ा-(सं. स्त्री.) नौका, नाव, देखें 'वेड़ा' ।

वेण-(सं. पुं.) गति, ज्ञान, चिन्ता, राजा
पृथु के एक पुत्र का नाम ।

वेणा-(सं. स्त्री.) उशीर, लन ।

वेणि-(सं. स्त्री.) स्त्रियों के बालों की
लटकती हुई चोटी, नदियों का गंगम;
-माधव-(पुं.) प्रयाग की एक चतुर्भुज
देवमूर्ति का नाम ।

वेणी-(सं. स्त्री.) बालों की लटकती हुई
चोटी, कवरी ।

वेणीर-(सं. पुं.) नीम का वृक्ष, रीठा ।

वेणु-(सं. पुं.) बंधा, बान, बान्स की शंभुरी;

-कार-(पुं.) बंगी बनानेवाला; -होत्र-
(पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।

वेतंड—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी ।
 वेतन—(सं. पुं.) वह धन जो कर्मचारी को नियत समय पर दिया जाता है, जीविका का आश्रय, वृत्ति; —भोगी—(वि.) वेतन पर काम करनेवाला ।
 वेतस—(सं. पुं.) वेत ।
 वेताल—(सं. पुं.) द्वारपाल, संतरी, वह शव जिस पर भूतों ने अविचार कर लिया हो, शिव के एक गण, छप्पय का एक भेद ।
 वेत्ता—(सं. वि.) ज्ञाता, जाननेवाला ।
 वेत्र—(सं. पुं.) वेत; —क—(पुं.) सरपत; —कार—(पुं.) वेत के पात्र आदि बनानेवाला; —धर—(पुं.) द्वारपाल, संतरी, —वती—(स्त्री.) वेतवा नदी ।
 वेत्रासन—(सं. पुं.) वेत का बना हुआ आसन ।
 वेत्रानुर—(सं. पुं.) एक दानव का नाम जो इन्द्र के द्वारा मारा गया था ।
 वेद—(सं. पुं.) विष्णु, वित्त, श्रुति, निगम, हिंदुओं के विभिन्न आदि धर्म-ग्रंथ, ब्रह्म-प्रतिपादक वाक्य, यज्ञांग, आम्नाय; —क—(वि.) परिचय करानेवाला; —कर्ता—(पुं.) विष्णु, शिव, सूर्य; —गर्भा—(पुं.) सरस्वती नदी; —गृह्य—(पुं.) विष्णु; —घोष—(पुं.) वेदध्वनि; —चक्षु—(पुं.) ज्ञानचक्षु; —जननी—(स्त्री.) सावित्री; —ज्ञ—(वि.) वेदों का ज्ञानी; —तत्व—(पुं.) वेद का ज्ञान; —दर्शी—(वि.) वेदों का जाननेवाला; —दान—(पुं.) वेद विषयक उपदेश; —धर्म—(पुं.) वेदोक्त धर्म; —ध्वनि—(स्त्री.) वेदघोष; —निन्दक—(पुं.) वेदों की निन्दा करनेवाला, नास्तिक; —पाठ—(पुं.) वेदाध्ययन; —पारग—(पुं.) वेदों का ज्ञाता; —पुण्य—(पुं.) वेद पढ़ने से होनेवाला पुण्य; —पुरुष—(पुं.) वेद या ज्ञान-रूप पुरुष; —फल—(पुं.) वह फल जो यज्ञ आदि करने से प्राप्त होता है; —ब्राहु—(पुं.) पुलस्त्य के एक पुत्र का नाम, श्रीकृष्ण; —मंत्र—(पुं.) वेदों के मन्त्र; —माता—(स्त्री.) गायत्री, सावित्री, दुर्गा, सरस्वती; —मूर्ति—(पुं.) सूर्य नारायण; —वती—(स्त्री.) कुशध्वज राजा की कन्या; —रहस्य—(पुं.) उपनिषद्; —वाक्य—(पुं.) वेद का कोई वाक्य, वह वात जो पूर्णतः प्रामाणिक हो; —वाहन—(पुं.) सूर्य देव; —विद्—(वि.) देखें 'वेदज्ञ'; —व्यास—(पुं.) कृष्ण-द्वैपायन नामक मुनि; —श्रुत—(पुं.) वसिष्ठ के एक पुत्र का नाम; —सम्मत—(वि.) वेदोक्त मत के अनुकूल; —सम्मित—(वि.) वेदों में लिखित या प्रतिपादित;

—स्तुति—(स्त्री.) ब्रह्मस्तुति; —हीन—(वि.) जिसको वेद का ज्ञान नहीं है ।
 वेदना—(सं. स्त्री.) व्यथा, कष्ट, पीड़ा ।
 वेदनीय—(सं. वि.) वेदनायुक्त, वेदनाप्रद ।
 वेदाग्रणी—(सं. स्त्री.) सरस्वती ।
 वेदांग—(सं. पुं.) वेद के अंगस्वरूप शास्त्र जो ६ हैं, यथा—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द, वारह आदित्यों में से एक ।
 वेदांत—(सं. पुं.) वेद का अंतिम अंश अर्थात् उपनिषद् और आरण्यक जिनमें आत्मा, परमात्मा, संसार आदि का निरूपण है, ब्रह्मविद्या, अध्यात्म-विद्या, पददर्शनों में से एक दर्शन जिसमें ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की गई है, उत्तर-मीमांसा, अद्वैतवाद; —सूत्र—(पुं.) महर्षि वादरायण के बनाये हुए सूत्र जो वेदान्त-शास्त्र के मूल माने जाते हैं ।
 वेदांती—(सं. पुं.) वेदान्त-शास्त्र को अच्छी तरह जाननेवाला, ब्रह्मवादी ।
 वेदात्मा—(सं. पुं.) विष्णु, सूर्य नारायण ।
 वेदाधिप—(सं. पुं.) चारों वेदों के अधिपति ग्रह, यथा—ऋग्वेद के बृहस्पति, यजुर्वेद के शुक, सामवेद के मंगल तथा अथर्ववेद के बुध हैं ।
 वेदाध्यक्ष—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण, विष्णु ।
 वेदार—(सं. पुं.) कृकलास, गिरगिट ।
 वेदि—(सं. स्त्री.) यज्ञ-कार्य के लिये स्वच्छ करके तैयार की हुई भूमि, नामांकित अंगठी ।
 वेदिजा—(सं. स्त्री.) द्रौपदी ।
 वेदित—(सं. वि.) ज्ञापित, जाना हुआ ।
 वेदितव्य—(सं. वि.) ज्ञातव्य, जानने योग्य ।
 वेदी—(सं. स्त्री.) यज्ञ, पूजन आदि के लिये तैयार की हुई भूमि ।
 वेदेश, वेदेश्वर—(सं. पुं.) ब्रह्मा ।
 वेदोक्त, वेदोदित—(सं. वि.) वेद में कहा हुआ ।
 वेद्य—(सं. वि.) वेदितव्य, जानने योग्य ।
 वेद्य—(सं. पुं.) छेदने की क्रिया, भेदन करना, वेधना, यन्त्र आदि की सहायता से ग्रह, नक्षत्र तथा तारों को देखना, ग्रहों का किसी ऐसे स्थान में पहुँचना जहाँ से उनका किसी दूसरे ग्रह से सामना होता हो ।
 वेधक—(सं. वि.) वेध करनेवाला ।
 वेधन—(सं. पुं.) वेध करना, गड़ाना ।
 वेधनी—(सं. स्त्री.) अंकुश ।
 वेधमुख्या—(सं. स्त्री.) कस्तूरी ।

वेधशाला—(सं. स्त्री.) वह स्थान जहाँ नक्षत्रों और तारों आदि को देखने और उनकी दूरी, गति आदि जानने के यन्त्र हों ।
 वेधा—(सं. पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य ।
 वेधालय—(सं. पुं.) देखें 'वेधशाला' ।
 वेधित—(सं. वि.) छिद्रित, छेदा हुआ, विद्ध ।
 वेधी—(सं. वि.) वेधनेवाला, छेदनेवाला ।
 वेध्य—(सं. वि.) वेधनीय, छेदने योग्य ।
 वेपथु—(सं. पुं.) कंप, कँपकँपी ।
 वेपन—(सं. पुं.) कंपन, कांपना ।
 वेपमान—(सं. वि.) कंपमान, कांपता हुआ ।
 वेल्—(सं. पुं.) उपवन ।
 वेला—(सं. स्त्री.) समय, क्षण, काल, अवसर, मर्यादा, समुद्र का किनारा, समुद्र की लहर, रोग, दिन-रात का चौबीसवाँ भाग, वाणी, भोजन का समय ।
 वेलावलि—(सं. पुं.) एक रागिनी का नाम ।
 वेल्लज—(सं. पुं.) काली मिर्च ।
 वेल्लि—(सं. स्त्री.) लता, वेल ।
 वेल्लित—(सं. वि.) कंपित, लिपटा हुआ ।
 वेल्ली—(सं. स्त्री.) वेल, लता ।
 वेश—(सं. पुं.) वस्त्र, आभूषण आदि से अपने को सजाना, वस्त्र आदि पहनने का ढंग, पहनने के वस्त्र, वस्त्रगृह, वेश्या का घर, तंबू; (मुहा.)—धारण करना—भेस बनाना; —धर—(पुं.) वह जो भेस बदले हुए हो; —धारी—(वि.) वेश (भेस) धारण करनेवाला; —भाव—(पुं.) वेग-परिधान का ढंग—भूषा—(स्त्री.) पहनावा; —युवती, —वनिता—(स्त्री.) वेश्या, रंडी ।
 वेशर—(सं. पुं.) खच्चर ।
 वेशी—(सं. वि.) वेश धारण करनेवाला ।
 वेस्म—(सं. पुं.) गृह, घर; —वास—(पुं.) रहने का घर ।
 वेश्य—(सं. वि.) प्रवेश करने योग्य ।
 वेश्यांगना—(सं. स्त्री.) कुलटा स्त्री ।
 वेश्या—(सं. स्त्री.) गणिका, रंडी ।
 वेथ—(सं. पुं.) नेपथ्य, रंगमंच के पीछे का वह स्थान जहाँ अभिनेता वस्त्र आदि पहनते हैं, रंडी का घर, बदला हुआ भेस ।
 वेथकार—(सं. पुं.) वेष्टन, वेठन ।
 वेथक—(सं. पुं.) प्राचीर, घेरा; (वि.) घेरनेवाला ।
 वेष्टन—(सं. पुं.) बलन, घेरने या लपेटने की क्रिया, मुकुट, उष्णीप, पगड़ी, कान का छेद, गुग्गुल ।
 वेष्टित—(सं. वि.) लपेटा हुआ, घिरा हुआ ।

वैकक्ष—(सं. पूं.) जनेऊ की तरह पहनने का एक प्रकार का हार ।
 वैकटिक—(सं. पूं.) रत्न-परीक्षक, जीहरी ।
 वैकट्य—(सं. पूं.) विकटता ।
 वकतिक—(सं. पूं.) रत्न-परीक्षक, जीहरी ।
 वकल्प—(सं. पूं.) विकल्प का भाव, विकल्पता ।
 वैकल्पिक—(सं. वि.) सन्दिग्ध, जिसमें किसी प्रकार का सन्देह हो, ऐच्छिक, (विषय) जिसे चुनने का विकल्प हो ।
 वैकल्य—(सं. पूं.) विकलता, घबड़ाहट, अंगहीनता, न्यूनता, कमी, टेढ़ापन ।
 वैकारिक—(सं. वि.) विगड़ा हुआ, विकृत ।
 वैकाल—(सं. पूं.) अपराह्न, तीसरा पहर ।
 वैकालिक—(सं. वि.) संध्या के समय होनेवाला ।
 वैकुण्ठ—(सं. पूं.) श्रीकृष्ण, विष्णु, स्वर्ग ।
 वैकुल—(सं. पूं.) विकार, दुर्लक्षण, संकट-सूचक घटना या लक्षण; (वि.) विकृत, विकारग्रस्त ।
 वैकृत्य—(सं. पूं.) वीभत्स रस, इस रस का अवलम्बन ।
 वैक्रमीय—(सं. वि.) विक्रम-संबंधी ।
 वैक्रांत—(सं. पूं.) मणि विशेष, चुन्नी ।
 वैकल्य—(सं. पूं.) विकलव, व्याकुलता, अस्तव्यस्तता ।
 वैखरी—(सं. स्त्री.) कण्ठ से उत्पन्न होनेवाले स्वर का एक विशिष्ट प्रकार जो ऊँचा और गम्भीर होता है ।
 वैखानस—(सं. पूं.) वानप्रस्थ, तपस्वी, ब्रह्मचारी ।
 वैगुण्य—(सं. पूं.) दोष, अपराध ।
 वैघात्य—(सं. वि.) मार डालने योग्य ।
 चित्र, वैचित्र्य—(सं. पूं.) विचित्रता, विलक्षणता ।
 वैजयंत—(सं. पूं.) इन्द्रपुरी, इन्द्रगृह, अरणी ।
 वैजयंतिक—(सं. वि.) झंडा उठानेवाला ।
 वैजयंतिका—(सं. स्त्री.) झंडा, पताका ।
 वैजयंती—(सं. स्त्री.) पताका, झंडा, पाँच रंगों के फूलों की लंबी माला जो श्रीकृष्ण पहनते थे ।
 वैजयिक—(सं. वि.) विजय-संबंधी ।
 वैजिक—(सं. वि.) वीर्य-संबंधी, वीज-संबंधी ।
 वैज्ञानिक—(सं. वि.) विज्ञान-संबंधी, निपुण, दक्ष; (पुं.) वह जो विज्ञान जानता हो ।
 वैडाल व्रत—(सं. पूं.) पाप और कुकर्म करते हुए भी ऊपर से साधु बना रहना ।
 वैदूर्य—(सं. पूं.) वैदूर्य मणि ।

वैणिक—(सं. पूं.) वीन बजानेवाला ।
 वैतंडिक—(सं. पूं.) व्यर्थ झगड़ा करनेवाला ।
 वैतंसिक—(सं. पूं.) मांस बेचनेवाला, कसाई ।
 वैतथ्य—(सं. पूं.) विफलता, असत्यता ।
 वतनिक—(सं. वि., पूं.) वेतन लेकर काम करनेवाला ।
 वैतरणी—(सं. स्त्री.) यमलोक और पृथ्वी के बीच एक कल्पित नदी का नाम ।
 वैतानिक—(सं. पूं.) वह अग्नि जो अग्नि-होत्र आदि कृत्य के लिये हो ।
 वैताल—(सं. पूं.) स्तुतिपाठक; (वि.) वेताल-संबंधी ।
 वैतालिक—(सं. पूं.) प्राचीन-काल का वह स्तुति-पाठक जो राजाओं को प्रातःकाल स्तुति गाकर जगाता था ।
 वैतालीय—(सं. वि.) वेताल-संबंधी; (पुं.) एक वृत्त जिसके पहले और तीसरे पादों में चौदह तथा दूसरे और चौथे पादों में सोलह मात्राएँ रहती हैं ।
 वैतृष्य—(सं. पूं.) लोभ से रहित होने का भाव ।
 वैदंभ—(सं. पूं.) शिव का एक नाम ।
 वैदक—(हिं. पूं.) देखें 'वैद्यक' ।
 वदग्ध—(सं. पूं.) पाण्डित्य, चतुराई, रसिकता, शोभा ।
 वैदर्भ—(सं. पूं.) विदर्भ देश का राजा, दमयन्ती के पिता भीमसेन, वातचीत करने में चतुराई; (वि.) विदर्भ देश-संबंधी ।
 वैदर्भी—(सं. स्त्री.) अगस्त्य ऋषि की पत्नी, दमयन्ती, रुक्मिणी, वाक्य की वह शैली जिसमें मधुर वर्णों का प्रयोग हो ।
 वैदिक—(सं. पूं.) वह ब्राह्मण जो वेद जानता हो; (वि.) वेद-संबंधी, वेदोक्त क्रिया-कर्म से संबंध ।
 वैदिश—(सं. पूं.) विदिशा का निवासी ।
 वैदुष्य—(सं. पूं.) विद्वत्ता, पाण्डित्य ।
 वैदूर्य—(सं. पूं.) लहसुनिया नाम का रत्न ।
 वैदेशिक—(सं. वि.) विदेश-संबंधी, परदेश से आया हुआ; (पुं.) विदेशी व्यक्ति ।
 वैदेह—(सं. पूं.) राजा विदेह के पुत्र का नाम ।
 वैदेहिक—(सं. पूं.) वणिक, व्यापारी ।
 वैदेही—(सं. स्त्री.) विदेह के राजा जनक की कन्या सीता ।
 वैद्य—(सं. पूं.) आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा करनेवाला, आयुर्वेद का विद्वान्, चिकित्सक, पण्डित; —क—(पुं.) चिकित्सा-शास्त्र, आयुर्वेद; —नाय—(पुं.) संवाल

परगने का प्रसिद्ध शैव-तीर्थ; —वंधु—(पुं.) अमलतास का वृक्ष ।
 वैद्युत—(सं. वि.) विद्युत्-संबंधी, बिजली का ।
 वैद्रुम—(सं. वि.) विद्रुम-संबंधी, मूंगे का ।
 वैध—(सं. वि.) विवि के अनुसार, विधिक, न्यायपूर्ण ।
 वैधर्म्य—(सं. पूं.) विधर्म होने का भाव, नास्तिकता ।
 वैधव—(सं. पूं.) चन्द्रमा के पुत्र वृष ।
 वैधवेय—(सं. पूं.) विधवा का पुत्र ।
 वैधव्य—(सं. पूं.) विधवा होने का भाव, अवस्था आदि, रूढ़ापा ।
 वैधात्र—(सं. पूं.) विधाता के पुत्र सनत्-कुमार ।
 वैधृत—(सं. पूं.) ग्यारहवें मन्वन्तर के एक इन्द्र का नाम ।
 वैधृति—(सं. स्त्री.) ज्योतिष के अनुसार सत्ताईस योगों में से एक ।
 वैधैय—(सं. वि.) विधि-संबंधी, मूर्ख ।
 वैन्तेय—(सं. पूं.) विनता की सन्तान, गरुड, अरुण ।
 वैनायक—(सं. वि.) विनायक या गणेश-संबंधी ।
 वैपरीत्य—(सं. पूं.) प्रतिकूलता, विपरीतता ।
 वैपार, वैपारी—(हिं. पूं.) देखें 'व्यापार, व्यापारी' ।
 वैपित्र—(सं. पूं.) वे सतानें जिनकी माता एक पर पिता भिन्न हैं ।
 वैपुल्य—(सं. पूं.) विपुलता, अधिकता ।
 वैफल्य—(सं. पूं.) विफल होने का भाव ।
 वैभव—(सं. पूं.) विभव, धन, महिमा, महत्त्व, विभूति, सामर्थ्य; —शाली—(वि.) जिसके पास बहुत धन हो ।
 वैभाषिक—(सं. वि.) विभाषा-संबंधी, वैकल्पिक ।
 वैभ्राज—(सं. पूं.) देवताओं का वगीचा ।
 वैमनस्य—(सं. पूं.) द्वेष, शत्रुता ।
 वैमल्य—(सं. पूं.) विमलता, स्वच्छता ।
 वैमात्र—(सं. वि., पूं.) विमाता से उत्पन्न, सीतेला (माई) ।
 वैमात्रो—(सं. वि., स्त्री.) सीतेली (वहन) ।
 वैमानिक—(सं. वि.) आकाश में उड़नेवाला; (पुं.) देवयोनि विशेष, विमान-चालक ।
 वैमुल्य—(सं. पूं.) विमुल्यता, विपरीतता ।
 वैमृष्य—(सं. पूं.) मानसिक चंचलता ।
 वैयाकरण—(सं. पूं.) वह जो व्याकरण-शास्त्र अच्छी तरह जानता हो ।
 वैयाघ्र—(सं. वि.) व्याघ्र-संबंधी ।

वैयास—(सं. वि.) व्यास-संबंधी, व्यास का ।
वैयासिक—(सं. वि.) व्यास का बनाया हुआ ।
वैर—(सं. पुं.) विरोध, द्वेष, शत्रुता;
 -कर—(वि.) शत्रुता पैदा करनेवाला;
 -कारिता—(स्त्री.) शत्रुता; -ता—
 (स्त्री.) शत्रुता; -भाव—(पुं.) शत्रुता;
 -शुद्धि—(स्त्री.) वैर का बदला ।
वैरल्य—(सं. पुं.) विरल का भाव, विरलता ।
वैराग्य—(हिं. पुं.) देखें 'वैराग्य' ।
वैरागी—(सं. वि., पुं.) जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ हो, विरक्त, उदासीन, वैष्णव सम्प्रदाय का एक भेद ।
वैराग्य—(सं. पुं.) विरक्ति, चित्त की वह वृत्ति जिसके अनुसार संसार की विषय-वासना असार जान पड़ती है और व्यक्ति संसार के प्रपंच को त्यागकर एकान्त में जाकर ईश्वर का भजन करता है ।
वैराज—(सं. पुं.) एक मनु का नाम, सत्ताईसवें कल्प का नाम ।
वैराज्य—(सं. पुं.) प्राचीन काल की एक प्रकार की शासन-प्रणाली जिसमें दो राजा एक ही देश में राज्य करते थे ।
वैराट—(सं. वि.) विस्तृत, लंबा-चौड़ा, विराट देश का ।
वैरी—(सं. वि.) शत्रुतापूर्ण; (पुं.) शत्रु ।
वैरूप्य—(सं. पुं.) विरूपता, विकृति ।
वलक्षण्य—(सं. पुं.) विलक्षणता, विभिन्नता ।
वलक्ष्य—(सं. पुं.) लज्जा, विस्मय, आश्चर्य ।
वैवर्ण—(सं. पुं.) मलिनता ।
वैवर्त—(सं. पुं.) पहिये के समान चक्कर खाते हुए घूमना ।
वैवश्य—(सं. पुं.) विवशता ।
वैवस्वत—(सं. पुं.) सूर्य के पुत्र शनि, सातवें मनु का नाम, एक रुद्र का नाम, (आजकल का मन्वन्तर वैवस्वत मनु का है ।)
वैवाहिक—(सं. वि.) विवाह-संबंधी; (पुं.) कन्या अथवा पुत्र का ससुर, समधी ।
वैवाह्य—(सं. वि.) विवाह-संबंधी ।
वैशंपायन—(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध ऋषि जो वेदव्यास के शिष्य थे ।
वैशद्य—(सं. पुं.) निर्मलता, स्वच्छता ।
वैशाख—(सं. पुं.) चैत्र के बाद का महीना जो जेठ के पहिले होता है, वैसाख ।
वैशाखी—(सं. स्त्री.) वैशाख की पूर्णिमा ।
वैशाली—(सं. वि.) विशाल नगर-संबंधी ।
वैशिक—(सं. पुं.) अनेक वेश्याओं के साथ रमण करनेवाला नायक ।
वैशिष्ट—(सं. पुं.) विशिष्टता ।
वैशेषिक—(सं. पुं.) कणाद मुनि-कृत

दर्शन-शास्त्र का जाननेवाला या अनु-यायी; (वि.) विशेषतायुक्त ।
वैशमीय—(सं. वि.) वैशम या गृह-संबंधी ।
वैश्य—(सं. पुं.) हिंदुओं की चार जातियों में से तृतीय वर्ण, वणिक, वनिया;
 -ता—(स्त्री.), -त्व—(पुं.) वैश्य का भाव या धर्म ।
वैश्या—(सं. स्त्री.) वैश्य जाति की स्त्री, बुनियाइन ।
वैश्वण—(सं. पुं.) शिव, कुबेर ।
वैश्व—(सं. पुं.) उत्तराषाढा नक्षत्र ।
वैश्वजनीन—(सं. वि.) संसार भर के लोगों से संबंध रखनेवाला ।
वैश्वदेव—(सं. पुं.) विश्वदेव के उद्देश्य से किया जानेवाला होम या यज्ञ ।
वैश्वदेवत—(सं. पुं.) उत्तराषाढा नक्षत्र ।
वैश्वरूप—(सं. वि.) विश्वरूप-संबंधी ।
वैश्वानर—(सं. पुं.) परमात्मा, अग्नि, पित्त, चेतन, चीता नाम का वृक्ष ।
वैश्वसिक—(सं. वि.) जिस पर विश्वास किया जाय, विश्वस्त ।
वैषम, **वैषम्य**—(सं. पुं.) विषमता, विषम होने का भाव ।
वैषधिक—(सं. पुं.) वह जो सर्वदा विषय-वासना में लिप्त रहता हो, विषयी, लंपट;
 (वि.) विषय-संबंधी ।
वैष्टुत—(सं. पुं.) होम का भस्म ।
वैष्णव—(सं. वि.) विष्णु-संबंधी; (पुं.) विष्णु का भक्त, विष्णु की पूजा करने-वाला, एक प्रसिद्ध धार्मिक सम्प्रदाय, (इस सम्प्रदाय के लोग बड़े आचार-विचार से रहते हैं ।)
वैष्णवी—(सं. स्त्री.) विष्णु की शक्ति, दुर्गा, गंगा, तुलसी, पृथ्वी, श्रवण नक्षत्र, वैष्णव स्त्री ।
वैसर्गिक—(सं. वि.) त्याज्य, विसर्जन करने योग्य ।
वैसा—(हिं. वि., अव्य.) उस प्रकार या तरह (का); **वैसे**—(अव्य.) उसी प्रकार से ।
वैसूचन—(सं. पुं.) नाटक में पुरुषों का स्त्री का अभिनय करना ।
वैस्तारिक—(सं. वि.) विस्तार-संबंधी ।
वैहंग—(सं. वि.) पक्षी-संबंधी ।
वैहायस—(सं. वि.) आकाश-संबंधी ।
वैहासिक—(सं. पुं.) विद्वेषक, मांड ।
वोक—(हिं. अव्य.) ओर ।
वोछा—(हिं. वि.) देखें 'ओछा' ।
वोढव्य—(सं. वि.) वाह्य, ढोने लायक ।
वोल—(सं. पुं.) एक सुगन्धित गोंद ।
वोल्लाह—(सं. पुं.) वह घोड़ा जिसकी

दुम और कंधे पर के बाल (अयाल) छोटे हों ।
वोहित्य—(सं. पुं.) पोत, जहाज ।
वोषट्—(सं. अव्य.) देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में घृतादि की आहुति देने का मन्त्र ।
व्यंग—(सं. पुं.) मेढक, वह जिसका कोई अंग टूटा या विकृत हो, शब्द का वह अर्थ जो उसकी व्यंजना-वृत्ति से प्रकट होता है, ताना ।
व्यंगित—(सं. वि.) विकल, घबड़ाया हुआ ।
व्यंगीकृत—(सं. वि.) विकलांग किया हुआ ।
व्यग्य—(सं. पुं.) देखें 'व्यंग', ताना ।
व्यंजक—(सं. वि.) प्रकाशक, प्रकट करने-वाला; (पुं.) हृदय के भावों को प्रकट करनेवाला अभिनय ।
व्यंजन—(सं. पुं.) तरकारी, शाक आदि जो रोटी, चावल आदि के साथ खाया जाता है, अवयव, शरीर, दिन, चिह्न, मूँछ, पकाया हुआ भोजन, वर्ण-माला के वे अक्षर जिनका बिना स्वर की सहायता से उच्चारण नहीं किया जा सकता ।
व्यंजना—(सं. स्त्री.) प्रकट करने की क्रिया, शब्द की वह वृत्ति या शक्ति जिससे उसके सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है ।
व्यंसक—(सं. पुं.) घूर्त ।
व्यंसित—(सं. वि.) धोखा खाया हुआ ।
व्यक्त—(सं. वि.) स्पष्ट, प्रकट, स्थूल, बड़ा, प्रकाशित, देखा हुआ, अनुमान किया हुआ; (पुं.) सांख्य-मत से प्रकृति का स्थूल रूप; -**गंधा**—(स्त्री.) नीली अपराजिता, सोनजूही; -**गणित**—(पुं.) अंकविद्या; -**ता**—(स्त्री.) व्यक्त होने का भाव; -**दृष्टार्थ**—(पुं.) प्रत्यक्षदर्शी, देखी हुई बात को कहने-वाला; -**राशि**—(स्त्री.) गणित में ज्ञात राशि; -**रूप**—(पुं.) विष्णु ।
व्यक्ति—(सं. स्त्री.) मनुष्य की वह सत्ता जो अलग होने पर भी समाज के अंग मानी है, स्पष्टता, मनुष्य, जीव, शरीर, वस्तु, पदार्थ ।
व्यक्तिगत—(सं. वि.) निजी ।
व्यक्तीकृत—(सं. वि.) प्रकाशित, प्रकट किया हुआ ।
व्यक्तित्व—(सं. पुं.) व्यक्ति की विशेषता, गुण आदि ।
व्यक्तोद्भूत—(सं. वि.) प्रकट किया हुआ ।
व्यक्तोदित—(सं. वि.) स्पष्ट कहा हुआ ।

व्यग्र—(सं. वि.) व्याकुल, घबड़ाया हुआ, त्रस्त, डरा हुआ, उद्योगी, उत्साही, आसक्त, काम में लगा हुआ; -ता—(स्त्री.) व्याकुलता, घबड़ाहट ।
 व्यजन—(सं. पुं.) हवा करने या झलने का पंखा, वेना ।
 व्यतिकर—(सं. पुं.) विनाश, व्याप्ति, समूह, व्यसन, सम्बन्ध, मिलावट ।
 व्यतिक्रम—(सं. पुं.) विपर्यय, उलट-फेर, विघ्न, बाधा ।
 व्यतिक्रमण—(सं. पुं.) क्रम में उलट-फेर होना, व्यतिक्रम ।
 व्यतिचार—(सं. पुं.) पापाचरण ।
 व्यतिपात—(सं. पुं.) बड़ा उपद्रव, अपमान ।
 व्यतिरिक्त—(सं. वि.) विभिन्न, अलग, पृथक् किया हुआ; (अव्य.) अतिरिक्त; -ता—(स्त्री.) विभिन्नता ।
 व्यतिरेक—(सं. पुं.) अभाव, भिन्नता, वृद्धि, बढ़ती, अतिक्रमण, वह अर्थालंकार जिसमें उपमान से उपमेयकी अधिकता या न्यूनता वर्णन की जाती है; -व्याप्ति—(स्त्री.) जिसमें जो गुण नहीं है उसमें वह गुण दिखलाना ।
 व्यतिरेकी—(सं. वि., पुं.) (वह) जो किसी पदार्थ में व्यतिरेक उत्पन्न करता हो ।
 व्यतिपक्त—(सं. वि.) आसक्त, मिला हुआ ।
 व्यतिहार—(सं. पुं.) गाली-गालीज, मार-पीट ।
 व्यतीकार—(सं. पुं.) विनाश, व्यतिकर ।
 व्यतीत—(सं. वि.) बीता हुआ, गत, मृत ।
 व्यतीपात—(सं. पुं.) कोई अमंगलसूचक उत्पात, अपमान, ज्योतिष के सत्ताईस योगों के अन्तर्गत सत्रहवाँ योग ।
 व्यत्यय—(सं. पुं.) व्यतिक्रम, विपर्यय ।
 व्ययक—(सं. वि.) पीड़ा देनेवाला ।
 व्ययन—(सं. पुं.) व्यया, पीड़ा ।
 व्यया—(सं. स्त्री.) दुःख, पीड़ा, भय, क्लेश ।
 व्यथित—(सं. वि.) दुःखित, पीड़ित, जिसको किसी प्रकार का कष्ट हो ।
 व्यथिक्षेप—(सं. पुं.) निन्दा ।
 व्यथदेश—(सं. पुं.) कपट, छल, नाम, कुल, वंश, जाति, व्यवहार, निन्दा ।
 व्यथनीत—(सं. वि.) दूर किया हुआ ।
 व्यथोह—(सं. पुं.) विनाश ।
 व्यभिचार—(सं. पुं.) अनैतिक आचरण, कुकर्म, पुरुष का परस्त्री से अथवा स्त्री का परपुरुष से अनुचित यौन संबंध, छिनारा, न्याय में हेतु-दोष ।
 व्यभिचारिता—(सं. स्त्री.) व्यभिचारी होने का भाव या धर्म ।

व्यभिचारिणी—(सं. स्त्री.) परपुरुष-गामिनी स्त्री ।
 व्यभिचारी—(सं. वि., पुं.) व्यभिचार करनेवाला, वह जो आचरण से भ्रष्ट हो, परस्त्रीगामी, साहित्य में चौंतीस प्रकार के शृंगार-भावों में से एक ।
 व्यथ—(सं. पुं.) खर्च, परित्याग, नाश, दान, ज्योतिष में लग्न से बारहवें स्थान का नाम; -कर—(वि.) व्यय करनेवाला; -शील—(वि.) बहुत व्यय करनेवाला ।
 व्यर्थ—(सं. वि.) निरर्थक, बिना आशय का, लामशून्य; (अव्य.) योंही, बिना मतलब के; -ता—(स्त्री.) विफलता, निष्फलता ।
 व्यलीक—(सं. पुं.) काम के आवेग में किया जानेवाला अपराध, विलक्षणता, दुःख, कष्ट, डाँट-डपट; (वि.) अद्भुत, कष्टकारक, अप्रिय, बिना काम का ।
 व्यवकलन—(सं. पुं.) गणित में किसी संख्या में से दूसरी संख्या घटाने की क्रिया ।
 व्यवकलित—(सं. वि.) घटाया हुआ ।
 व्यवकीर्ण—(सं. वि.) मिश्रित, मिलाया हुआ ।
 व्यवच्छिन्न—(सं. वि.) विभक्त, काटकर अलगाया हुआ ।
 व्यवच्छेद—(सं. पुं.) पृथक्त्व, अलगाव, विभाग, खण्ड, निवृत्ति, छुटकारा, विराम ।
 व्यवच्छेदक—(सं. वि.) व्यवच्छेद करनेवाला ।
 व्यवधान—(सं. पुं.) विभाग, खण्ड, भेद, समाप्ति, आच्छादन, आड़ करनेवाली वस्तु ।
 व्यवधायक—(सं. वि.) छिपानेवाला, आड़ करने या छिपानेवाला ।
 व्यवसाय—(सं. पुं.) जीविका का कार्य, यत्न, उद्यम, व्यापार, अभिप्राय ।
 व्यवसायी—(सं. वि., पुं.) व्यवसाय करनेवाला, किसी कार्य का अनुष्ठान करनेवाला, व्यापारी ।
 व्यवसित—(सं. वि.) उद्यत, तत्पर ।
 व्यवस्था—(सं. स्त्री.) प्रबन्ध, नियम, स्थिति, शास्त्र-निरूपित विधि, वस्तुओं को सजाकर यथास्थान रखना ।
 व्यवस्थाता—(सं. स्त्री.) प्रबंध या व्यवस्था करनेवाला, प्रबंधक ।
 व्यवस्थापक—(सं. वि., पुं.) नियमपूर्वक किसी कार्य को चलानेवाला, प्रबन्ध करनेवाला ।
 व्यवस्थापत्र—(सं. पुं.) वह लेख्य-पत्र जिसमें

किसी विधि-विहित व्यवस्था का विधान लिखा हो ।
 व्यवस्थापन—(सं. पुं.) निर्धारण, निरूपण ।
 व्यवस्थापिका सभा—(सं. स्त्री.) नियम या विधान बनानेवाली सभा ।
 व्यवस्थापित—(सं. वि.) निर्धारित, नियमित ।
 व्यवस्थित—(सं. वि.) जिसकी व्यवस्था की गई हो, नियमित, संगठित ।
 व्यवहरण—(सं. पुं.) विवाद-विषय को न्यायालय में उपस्थित करना ।
 व्यवहर्ता—(सं. पुं.) मुकदमा लड़नेवाला ।
 व्यवहार—(सं. पुं.) विवाद, न्याय, प्रयोग या उपयोग, स्थिति, क्रिया, कार्य, झगड़ा, व्यापार, लेन-देन का काम; -क—(पुं.) व्यापारी; -विधि—(स्त्री.), -शास्त्र—(पुं.) वह शास्त्र जिसमें व्यवहार या विवाद-संबंधी बातों का विवेचन हो ।
 व्यवहारास्पद—(सं. पुं.) अभियोग ।
 व्यवहारिक—(सं. वि.) जो व्यवहार के लिये उपयुक्त हो, व्यवहार-संबंधी ।
 व्यवहारो—(सं. वि.) व्यवहार करनेवाला, जो व्यवहार में आता हो ।
 व्यवहृत—(सं. वि.) जो काम में लाया गया हो, आचरित, विचारित, प्रयुक्त ।
 व्यवहृति—(सं. स्त्री.) व्यापार, व्यवहार ।
 व्यष्टका—(सं. स्त्री.) कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा ।
 व्यष्टि—(सं. स्त्री.) समाज से अलग व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व, व्यक्तित्व ।
 व्यसन—(सं. पुं.) आपत्ति, दुःख, कष्ट, पतन, विनाश, पाप, अमंगल, निष्फल प्रयत्न, विषय-वान्ना में अनुराग, दुर्भाग्य, अयोग्यता, काम और क्रोधजनित दोष, किसी बात का प्रेम ।
 व्यसनी—(सं. पुं., वि.) जिसको किसी प्रकार का व्यसन हो, वेश्यागामी ।
 व्यस्त—(सं. वि.) व्याप्त, फैला हुआ, व्याकुल, घबड़ाया हुआ, किसी काम में लगा हुआ ।
 व्याकरण—(सं. पुं.) वह शास्त्र जिसमें किसी भाषा के शब्दों, वाक्यों आदि के शुद्ध प्रयोग के नियमों का विवेचन रहता है ।
 व्याकर्ता—(सं. पुं.) सृष्टिकर्ता ।
 व्याकीर्ण—(सं. वि.) चारों ओर फैलाया हुआ ।
 व्याकुल—(सं. वि.) व्यग्र, विकल, घबड़ाया हुआ, कातर, उत्कण्ठित; -ता—(स्त्री.) विकलता, घबड़ाहट ।

व्याकृति—(सं. स्त्री.) पार्थक्य, व्याख्या ।
 व्याक्रोश—(सं. पुं.) तिरस्कार करते हुए कटूक्ति कहना, चिल्लाना; -क—(वि.) चिल्लानेवाला ।
 व्याक्षेप—(सं. पुं.) विलम्ब, देर, बाधा, व्याकुलता ।
 व्याख्या—(सं. स्त्री.) वह विवेचन जो कठिन वाक्यों आदि का अर्थ सरल भाषा में स्पष्ट करता हो, टीका, वर्णन ।
 व्याख्यात—(सं. वि.) जिसकी व्याख्या की गई हो ।
 व्याख्याता—(सं. पुं.) व्याख्या करनेवाला, व्याख्यान देनेवाला ।
 व्याख्यान—(सं. पुं.) किसी विषय की व्याख्या या टीका करने का काम, भाषण, वक्तृता ।
 व्याख्यानशाला—(सं. स्त्री.) वह स्थान जहाँ व्याख्यान दिया जाता हो ।
 व्याख्येय—(सं. वि.) व्याख्यान देने या समझाने योग्य ।
 व्याघट्टन—(सं. पुं.) अच्छी तरह रगड़ने का काम, मंथन ।
 व्याघात—(सं. पुं.) ज्योतिष के सत्ताईस योगों में से तेरहवाँ योग जो अशुभ माना जाता है, अन्तराय, विघ्न, बाधा, प्रहार, मार, वह अलंकार जिसमें एक ही साधन या उपाय से दो विरोधी कार्यों का होना व्यक्त किया जाता है ।
 व्याघ्र—(सं. पुं.) एक हिंस्र जंतु, बाघ, सर्वश्रेष्ठ, प्रधान; -घंटा—(स्त्री.) किंकिणी नाम की लता; -चर्म—(पुं.) बाघ या सिंह की खाल; -नख—(पुं.) शेर का नख, नखी नामक गन्धद्रव्य; -नायक—(पुं.) शृगाल, सियार; -मुख—(पुं.) विल्ली; -वक्त्र—(पुं.) शिव का गण, विल्ली ।
 व्याज—(सं. पुं.) कपट, छल, विघ्न, बाधा, विलम्ब, देर; -निंदा—(स्त्री.) छल या कपट से की हुई निंदा, वह शब्दालंकार जिसमें इस प्रकार की निंदा की जाती है; -मय—(वि.) कपट से भरा हुआ; -स्तुति—(स्त्री.) वह स्तुति जो निंदा के वहाने की जाय और वस्तुतः स्तुति न जान पड़े, वह काव्यालंकार जिसमें इस प्रकार की स्तुति की जाती है ।
 व्याजी—(सं. स्त्री.) धलुवा ।
 व्याजोक्ति—(सं. स्त्री.) वह उक्ति जिसमें किसी प्रकार का कपट हो, वह काव्यालंकार जिसमें किसी बात को छिपाने के लिये कोई वहाना किया जाता है ।
 व्याडि—(सं. पुं.) एक ऋषि जिन्होंने

व्याकरण और शब्दकोश बनाया था ।
 व्यात्त—(सं. वि.) फैलाया या खोला हुआ ।
 व्यादान—(सं. पुं.) विस्तार, फैलाव ।
 व्यादीर्घ—(सं. वि.) अति दीर्घ, फैलाया हुआ ।
 व्याध—(सं. पुं.) जंगली पशुओं को मारकर निर्वाह करनेवाला, शिकारी, लुब्ध, प्राचीन काल की शबर नाम की जाति, नीच और दुष्ट व्यक्ति ।
 व्याधि—(सं. स्त्री.) रोग, पीड़ा, आपत्ति, विरह आदि के कारण शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होना ।
 व्याधित—(सं. वि.) रोगी ।
 व्याधूत—(सं. वि.) कंपित, काँपता हुआ ।
 व्यान—(सं. पुं.) शरीर में रहनेवाली पाँच वायुओं में से एक जो सम्पूर्ण शरीर में संचार करनेवाली मानी जाती है ।
 व्यापक—(सं. वि.) चारों ओर फैला हुआ, आच्छादक, सर्वत्र व्याप्त; -न्यास—(पुं.) किसी देवता का मूल-मन्त्र पढ़ते हुए सिर से पैर तक सर्वांग-न्यास की क्रिया ।
 व्यापत्ति—(सं. स्त्री.) मृत्यु ।
 व्यापना—(हिं. क्रि. अं.) व्याप्त होना, सर्वत्र फैलना ।
 व्यापादित—(सं. वि.) मारा हुआ ।
 व्यापार—(सं. पुं.) कर्म, कार्य, काम, व्यवसाय, विक्री, अभ्यास, उद्योग, प्रयोग ।
 व्यापारी—(सं. पुं.) व्यवसाय करनेवाला, व्यवसायी ।
 व्यापित्व—(सं. पुं.) व्यापक होने का भाव या धर्म ।
 व्यापी—(सं. वि.) जो व्याप्त हो, व्यापक ।
 व्यापृत—(सं. वि.) किसी कार्य में लीन ।
 व्याप्त—(सं. वि.) समाक्रान्त, सम्पूर्ण, परिपूरित, विस्तारित, सर्वत्र फैला हुआ ।
 व्याप्ति—(सं. स्त्री.) सर्वत्र व्याप्त होना, आठ प्रकार के ऐश्वर्यों में से एक, न्याय के अनुसार किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का पूर्ण रूप से मिल जाना; -मत्—(वि.) व्याप्तियुक्त ।
 व्याप्य—(सं. पुं.) साधन, हेतु; (वि.) व्याप्त होने योग्य ।
 व्यामिश्र—(सं. वि.) सम्मिलित, मिला हुआ ।
 व्यामोह—(सं. पुं.) मोह, अज्ञान ।
 व्यायत—(सं. वि.) अतिशय, दीर्घ ।
 व्यायाम—(सं. वि.) शरीर पुष्ट करने के लिये किया जानेवाला, श्रम क्रीड़ा आदि, कसरत, युद्ध की तैयारी ।
 व्यायामी—(सं. वि.) व्यायाम या कसरत करनेवाला ।

व्यायुध—(सं. वि.) निःशस्त्र ।
 व्यायोग—(सं. पुं.) साहित्य में दस प्रकार के रूपक या दृश्य काव्यों में से एक ।
 व्यारोष—(सं. पुं.) आक्रोश, क्रोध ।
 व्याल—(सं. पुं.) सर्प, साँप, व्याघ्र, दुष्ट हाथी, राजा, विष्णु, कोई हिंस्र पशु, दण्डक छन्द का एक भेद; -ग्राह—(पुं.) सँपेरा; -मृग—(पुं.) शेर ।
 व्यालि—(सं. पुं.) एक प्राचीन ऋषि का नाम ।
 व्यालिक—(सं. पुं.) सँपेरा ।
 व्याल—(हिं. पुं.) रात्रि का भोजन ।
 व्यालोल—(सं. वि.) थोड़ा हिलता हुआ ।
 व्यावर्तक—(सं. वि.) पीछे की ओर लौटने वाला ।
 व्यावहारिक—(सं. वि.) जो व्यवहार में आता हो, व्यवहार-संबंधी ।
 व्यावृत्त—(सं. वि.) निषिद्ध, खंडित, बाँट हुआ ।
 व्यावृत्ति—(सं. स्त्री.) खण्डन, निषेध, निवृत्ति ।
 व्यास—(सं. पुं.) विस्तार, फैलाव, वृत्त की मध्य रेखा, पुराणादि का पाठ करनेवाला ब्राह्मण, देखें 'वेदव्यास' ।
 व्यासार्ध—(सं. पुं.) व्यास का आधा भाग ।
 व्याहत—(सं. वि.) निवारित, आहत, निषिद्ध ।
 व्याहरण—(सं. पुं.) कथन, उक्ति ।
 व्याहार—(सं. पुं.) वाक्य ।
 व्याहृत—(सं. वि.) कथित, कहा हुआ ।
 व्याहृति—(सं. स्त्री.) कथन-उक्ति, मन्त्र विशेष—“ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः” ।
 व्युत्क्रम—(सं. पुं.) क्रम में उलट-फेर होना ।
 व्युत्पत्ति—(सं. स्त्री.) मूल, उद्गम, उत्पत्ति, प्रगाढ़ ज्ञान, किसी शब्द का मूल रूप जिससे वह बना हो ।
 व्युत्पन्न—(सं. वि., पुं.) जिसका संस्कार हो चुका हो, किसी शास्त्र आदि का अच्छा ज्ञाता, व्युत्पत्तियुक्त ।
 व्युत्पादक—(सं. वि.) उत्पन्न करनेवाला ।
 व्युत्पादन—(सं. पुं.) व्युत्पत्ति ।
 व्युत्पादित—(सं. वि.) व्युत्पन्न, उत्पादित ।
 व्युदस्त—(सं. वि.) परित्यक्त, निवारित, फेंका हुआ ।
 व्युदेश—(सं. पुं.) छल, वंचना ।
 व्युपशम—(सं. पुं.) अशान्ति ।
 व्यूह—(सं. वि.) स्थूल, मोटा, तुल्य, समान, दृढ़ ।
 व्यूह—(सं. पुं.) समूह, निर्माण, रचना, शरीर, देह, सेना, परिणाम, शिबन,

लिंग, युद्ध-भूमि में सेना टुकड़ियों में
दुर्भेद्य ढंग से स्थापित किया जाना;
-पूठ-(पुं.) व्यूह का पिछला भाग।
व्योम-(सं. पुं.) आकाश, वायु, जल;
-केश-(पुं.) शिव, महादेव; -गंगा-
(स्त्री.) मन्दाकिनी; -गमनी विद्या-
(स्त्री.) आकाश में उड़ने की विद्या; -चर-
आकाश में भ्रमण करनेवाला; -चारी-
(पुं.) देवता, पक्षी; -धूम-(पुं.) मेघ,
वादल; -पाद-(पुं.) विष्णु; -मंडल-(पुं.)
आकाश; -यान-(पुं.) हवाई जहाज;
-वल्ली-(स्त्री.) अमरवेल; -सद्-
(पुं.) देवता, गन्धर्व; -सरित्-(स्त्री.)
आकाशगंगा; -स्थली-(स्त्री.) पृथ्वी;
-स्पृश्-(वि.) बहुत ऊँचा।
व्योमोदक-(सं. पुं.) बरसाती पानी।
व्रज-(सं. पुं.) व्रजन, गमन, जाना,
चलना, समूह, झुण्ड, गोष्ठ, मथुरा और
वृन्दावन के आसपास का प्रान्त जो
श्रीकृष्ण का लीलाक्षेत्र तथा और
अति पवित्र माना जाता है; -क-
(पुं.) तपस्वी; -केशोर-(पुं.)
श्रीकृष्ण; -नाथ-(पुं.) श्रीकृष्ण,
व्रजभूमि के अधिपति; -भाषा-(स्त्री.)
मथुरा, आगरा तथा इसके आसपास के
प्रदेशों में बोली जानेवाली भाषा, (हिंदी
के अधिकांश कवियों) यथा-सूर,
तुलसी, विहारी आदि ने व्रजभाषा में
काव्य रचे हैं। किसी समय दिल्ली और
आगरे का मध्यवर्ती प्रदेश व्रजभूमि
कहलाता था। इस राज्य की राजधानी
मथुरा थी; -भू-(वि.) व्रज में उत्पन्न;
-मंडल-(पुं.) व्रजभूमि, व्रज और इसके
आसपास का प्रदेश; -मोहन-(पुं.)
श्रीकृष्ण; -राज-(पुं.) व्रजमोहन;
-लाल-(हिं. पुं.) नन्दलाल, श्रीकृष्ण;
-वर, -वल्लभ-(पुं.) श्रीकृष्ण।
व्रजन-(सं. पुं.) गमन, जाना, चलना।
व्रजांगना-(सं. स्त्री.) व्रज की स्त्री, गोपी।
व्रजेंद्र, व्रजेश्वर-(सं. पुं.) श्रीकृष्ण।
व्रज्या-(सं. स्त्री.) पर्यटन, घमना-फिरना,
आक्रमण, चढ़ाई, गमन, दल, नाट्यशाला।
व्रण-(सं. पुं.) धत, फोड़ा।
व्रणजिता-(सं. स्त्री.) गोरखमण्डली।
व्रणलाय-(सं. पुं.) घाव या फोड़े से पीव
निकलना।
व्रणहा-(सं. स्त्री.) गुरुन।
व्रणोद्य-(सं. वि.) धर्म-संबंधी।
व्रत-(सं. पुं.) भक्षण, भोजन, किसी पर्य-
तिथि को पुण्य प्राप्त करने के निमित्त

उपवास करना, संकल्प; -चर्या-(स्त्री.)
व्रत का अनुष्ठान; -चारी-(वि.) व्रत
करनेवाला; -धर-(वि.) व्रत धारण
करनेवाला; -पक्ष-(पुं.) भाद्रपद
मास का शुक्ल पक्ष; -पारण-(पुं.) व्रत
के अन्त में किया जानेवाला पारण;
-भिक्षा-(स्त्री.) उपनयन-संस्कार के
समय की भिक्षा; -स्थ-(वि.) व्रतधर।
व्रतादेश-(सं. पुं.) उपनयन-संस्कार।
व्रती-(सं. पुं.) यजमान, जिसने किसी
प्रकार का व्रत लिया हो, ब्रह्मचारी।
व्रतेश-(सं. पुं.) शिव, महादेव।
व्रतचन-(सं. पुं.) कुठार, कुल्हाड़ी, छेनी।
व्रतचड-(सं. स्त्री.) अपभ्रंश भाषा का
एक भेद जिसका प्रचार प्राचीन समय
में सिन्धु देश में था, पैशाची भाषा का
एक भेद।
व्राज-(सं. पुं.) दल, समूह।
व्राजपति-(सं. पुं.) दल या समूह का नायक।
व्रात-(सं. पुं.) जीविका के लिये किया
जानेवाला परिश्रम।
व्रात्य-(सं. वि.) व्रत-संबंधी, संस्कार-
रहित, उपनयन-संस्काररहित, वर्णसंकर,
दोगला।
व्रीड, व्रीडन-(सं. पुं.) लज्जा, शर्म।
व्रीडा-(सं. स्त्री.) लज्जा, शर्म।
व्रीहि-(सं. पुं.) चावल।
व्रीहिकांचन-(सं. पुं.) मसूर।
व्रीहिमुख-(सं. पुं.) एक प्रकार का शस्त्र।
व्रीहिवेला-(सं. स्त्री.) शरत्काल।

श

श हिन्दी वर्णमाला में व्यंजन का
तीसवाँ वर्ण, इसका उच्चारण-
स्थान तालु है—इसी से यह “तालव्य
श” कहलाता है। यह महाप्राण है और
इसके उच्चारण में सीत्कार होती है।
इसलिए यह ऊष्मवर्ण भी कहलाता है;
(सं. पुं.) शिव, महादेव, शास्त्र, शस्त्र,
शुभ, कल्याण।
शं-सं. पुं.) मंगल, कल्याण, शास्त्र, सुख,
शान्ति।
शंक-(सं. पुं.) आशंका, भय, डर।
शंकरना-(हिं. क्रि. अ.) शंका करना, सन्देह
करना, डरना।
शंकनीय-(सं. वि.) शंका करने योग्य।
शंकर-(सं. पुं.) शिव, महादेव, शंकरा-
चार्य, कवतार, श्रीगणेश की कल्पना, एक
छन्द का नाम, एक सम्पूर्ण जाति का

राग; (वि.) शुभ, कल्याण करने-
वाला, लाभदायक; -ताल-(पुं.) संगीत
में एक प्रकार का ताल जिसमें ग्यारह
मात्राएँ होती हैं; -प्रिय-(पुं.) तीतर
पत्नी, वतूरा; -वाणी-(स्त्री.) ब्रह्म-
वाक्य; -शुक्ल-(पुं.) पारद, पारा;
-शैल-(पुं.) कैलास।
शंकरा-(सं. स्त्री.) शिव की भार्या,
भवानी, एक राग का नाम; (वि. स्त्री.)
मंगल करनेवाली।
शंकराचारी-(हिं. पुं.) शंकराचार्य के
मत का अनुयायी।
शंकराचार्य-(सं. पुं.) सुप्रसिद्ध अद्वैतवाद
के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक।
शंकराभरण-(सं. पुं.) सम्पूर्ण जाति का
एक प्रकार का राग।
शंकरालय-(सं. पुं.) कैलास।
शंकरावास-(सं. पुं.) कैलास, भीमसेनी
कपूर।
शंकरा-(सं. स्त्री.) शिव की पत्नी,
पार्वती, एक रागिनी का नाम; (वि.
स्त्री.) शंकरा।
शंकरोद्य-(सं. वि.) शंकर-संबंधी।
शंकपण-(सं. पुं.) विष्णु।
शंका-(सं. स्त्री.) मन में होनेवाला
अनिष्ट का भय, डर, संशय, आशंका,
साहित्य में वह संचारी भाव जो अपने
किये हुए किसी अनुचित व्यवहार
अथवा किसी प्रकार से होनेवाली इष्ट-
हानि के कारण उत्पन्न होता है; -मय-
(वि.) शंकायुक्त।
शंक्ति-(सं. वि.) अनिश्चित, सन्देह-
युक्त, डरा हुआ।
शंक्तिव्य-(सं. वि.) शंका के योग्य।
शंकु-(सं. पुं.) कोई नुकीली वस्तु,
बरछा, भाला, सूँटा, मेख, कील, शिब,
कामदेव, राक्षस, विष, दस लाख की
संख्या, प्राचीन काल का एक वाजा,
पाप, उग्रसेन के एक पुत्र का नाम,
पत्ते की नरा, नखी नामक गन्धद्रव्य;
-कर्ण-(पुं.) गर्दभ, गदहा; -कर्णो-
(पुं.) शिव, महादेव; -जिह्व-(पुं.)
ज्योतिष में एक गणित-विधि; -पुच्छ-
(वि.) जितकी पूँछ में टंक हो; -मुत्ती-
(स्त्री.) जोत।
शंकुला-(सं. स्त्री.) गुपारी काटने का
सरोता।
शंभ-(सं. पुं.) एक प्रकार का बड़ा घोंघा
जो समुद्र में पाया जाता है, कथान की
हृदी, बुधेर की एक निधि, सं

पद्म की संख्या; -कंद-(पुं.) कंद विशेष; -चरी-(स्त्री.) मस्तक पर चन्दन का तिलक; -चूड़-(पुं.) एक दैत्य का नाम; -ज-(पुं.) मोती; -जीरा-(पुं.) संगजराहत पत्थर; -घर-(पुं.) विष्णु; -धरा-(स्त्री.) हुरहुर का पौधा; -धवला-(स्त्री.) सफेद जूही; (वि.) शंख के समान सफेद; -नारी-(स्त्री.) एक वृत्त का नाम; -पाणि-(पुं.) विष्णु; -पाषाण-(पुं.) संख्या; -पुष्पिका-(स्त्री.) सफेद जूही; -पुष्पी-(स्त्री.) एक तृण; -प्रणाद-(पुं.) शंख का शब्द; -प्रवर-(वि.) बड़ा शंख; -प्रस्थ-(पुं.) चन्द्रमा का कलंक; -भस्म-(पुं.) एक प्रकार का चूना; -भूत-(पुं.) शंख धारण करनेवाले विष्णु; -मालिनी-(स्त्री.) शखपुष्पी; -मुख-(पुं.) घड़ियाल; -मुद्रा-(स्त्री.) अँगुलियों को मोड़कर शंख की आकृति बनाने की मुद्रा; -मूल-(पुं.) शंख का अग्रभाग; -यूथिका-(स्त्री.) सफेद जूही; -लिखित-(वि.) निर्दोष; -वात-(पुं.) सिर की पीड़ा।

शंखालुक-(सं. पुं.) सफेद शकरकंद।
 शंखास्थि-(सं. स्त्री.) सिर की हड्डी।
 शंखाहलि-(सं. स्त्री.) शंखपुष्पी।
 शंखिनी-(सं. स्त्री.) एक प्रकार की वनोपधि, एक देवी का नाम, सीप, स्त्रियों के चार भेदों में से एक।
 शंकर-(सं. पुं.) एक प्रकार का बहुत ऊँचा वृक्ष।
 शंग(ज)रफ-(हिं. पुं.) देखें 'शिगरफ'।
 शंड-(सं. पुं.) पण्ड, हिजड़ा।
 शंतनु-(सं. वि.) सुन्दर शरीरवाला; (पुं.) भीष्म के पिता का नाम।
 शंतालि-(सं. वि.) सुख करनेवाला।
 शंतातीय-(सं. वि.) स्तोत्र-संबंधी।
 शंबर-(सं. पुं.) जल, पानी, चित्र, वादल; -कंद-(पुं.) वाराहीकंद; -माया-(स्त्री.) इन्द्रजाल; -सूदन-(पुं.) कामदेव।
 शंबल-(सं. पुं.) तट, किनारा, ईर्ष्या, द्वेष।
 शंबली-(सं. स्त्री.) कुटनी।
 शंबसादन-(सं. पुं.) एक दैत्य का नाम।
 शंबु-(सं. पुं.) घोघा, सीप।
 शंबुक-(सं. पुं.) हाथी की सूंड का अगला भाग, शंख, एक दैत्य का नाम।
 शंभु-(सं. पुं.) शिव, महादेव, ग्यारह रुद्रों में से एक, ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, पारद, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण

में उन्नीस वर्ण होते हैं; (वि.) सुख की वृद्धि करनेवाला; -कांता-(स्त्री.) पार्वती; -तनय, -नंदन-(पुं.) गणेश, कार्तिकेय; -नाथ-(पुं.) शिव, महादेव; -बीज-(पुं.) पारद, पारा; -भूषण-(पुं.) चन्द्रमा; -लोक-(पुं.) कैलास; -वस्त्रभ-(पुं.) सफेद कमल।

शंसन-(सं. पुं.) कथन, प्रार्थना, हिसन।
 शंसनीय-(सं. वि.) हिसनीय, प्रार्थनीय।
 शंसित-(सं. वि.) निश्चित, सूचित, वांछित, हिसित।
 शंस्य-(सं. वि.) स्तुति करने योग्य।
 शऊर-(हिं. पुं.) किसी काम को करने का सुन्दर ढंग, कौशल आदि; -दार-(पुं.) शऊरवाला व्यक्ति।
 शक-(सं. पुं.) एक प्राचीन जाति जिसने ईसा से दो सौ पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, शालिवाहन राजा का चलाया हुआ संवत् जो ईसवी सन् से ७८ वर्ष बाद आरंभ हुआ था; (अ. पुं.) शंका, संदेह, द्विविधा।
 शककारक-(सं. पुं.) कोई संवत् चलानेवाला।
 शकट-(सं. पुं.) बैलगाड़ी, छकड़ा, दो हजार पल का मान, घव का पेड़, रोहिणी नक्षत्र, एक असुर जिसका वध श्रीकृष्ण ने किया था; -धूम-(पुं.) एक नक्षत्र का नाम; -ब्यूह-(पुं.) सेना को इस प्रकार वर्गों में रखना कि आगे का भाग पतला तथा पीछे का चौड़ा हो।
 शकटाक्ष-(सं. पुं.) गाड़ी का धुरा।
 शकटार-(सं. पुं.) राजा महानन्द का प्रधान मन्त्री जिसने चाणक्य से मिलकर षड्यन्त्र रचा और नन्द वंश का नाश किया था।
 शकटारि-(सं. पुं.) श्रीकृष्ण।
 शकटासुर-(सं. पुं.) एक दैत्य जिसको कंस ने श्रीकृष्ण को मारने के लिये भेजा था परन्तु वह स्वयं मारा गया।
 शकटि-(सं. स्त्री.) छोटी गाड़ी।
 शकटिक-(सं. वि.) शकट-संबंधी।
 शकटिका-(सं. स्त्री.) बच्चों के खेलने की गाड़ी।
 शकटी-(सं. स्त्री.) छोटी गाड़ी।
 शकर-(फा. पुं.) शक्कर, कच्ची चीनी।
 शकरकंद-(हिं. पुं.) एक प्रकार का मीठा कंद।
 शकरपाला(रा)-(फा. पुं.) एक प्रकार का पकवान।

शकरपीटन-(हिं. पुं.) एक प्रकार की पहाड़ी कंटोली झाड़ी।
 शकल-(सं. पुं.) खण्ड, टुकड़ा, छाल, चमड़ा, शक्कर, कमलदण्ड, दालचीनी; (हिं. स्त्री.) शकल, रूप, मुखाकृति।
 शकलेद्रु-(सं. पुं.) अपूर्ण चन्द्रमा।
 शकव-(सं. पुं.) राजहंस।
 शकांतक-(सं. पुं.) विक्रमादित्य।
 शकादित्य-(सं. पुं.) शालिवाहन राजा।
 शकाब्द-(सं. पुं.) शालिवाहन का चलाया हुआ संवत्।
 शकार-(सं. पुं.) श स्वरूप वर्ण, संस्कृत के नाटकों में राजा के साले के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता है।
 शकारि-(सं. पुं.) विक्रमादित्य।
 शकील-(फा. वि.) सुन्दर।
 शकुंत-(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, एक प्रकार का कौआ, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।
 शकुंतला-(सं. स्त्री.) मेनका नाम की अप्सरा के गर्भ से तथा विश्वामित्र के औरस से उत्पन्न कन्या जिसका पालन-पोषण कण्व ऋषि ने किया और विवाह राजा दुष्यन्त से हुआ था। इनके गर्भ से भरत का जन्म हुआ था।
 शकुंतलात्मज-(सं. पुं.) राजा भरत।
 शकुंतिका-(सं. स्त्री.) छोटी चिड़िया।
 शकुंद-(सं. पुं.) सफेद कनेर।
 शकुन-(सं. पुं.) शुभाशुभसूचक लक्षण, शुभ या अशुभ की पूर्व-सूचना, शुभ घड़ी, सगुन, पक्षी, चिड़िया, गृध्र, मंगल-गीत; (मुहा.)-विचारना-कोई मंगल कार्य करने से पहले शुभ घड़ी, मुहूर्त आदि स्थिर करना अथवा शुभाशुभ लक्षण देखकर यह स्थिर करना कि कार्य होगा या नहीं; -ज्ञ-(वि.) शकुन का शुभाशुभ फल जाननेवाला; -शास्त्र-(पुं.) वह शास्त्र जिसमें शकुनों के शुभाशुभ फलों का विवेचन होता है।
 शकुनि-(सं. पुं.) पक्षी, चिड़िया, गिद्ध, दुर्योधन के मामा का नाम जो इनका मंत्री और कौरवों के कुकर्मा का प्रधान प्रेरक था।
 शकुनिवाद-(सं. पुं.) प्रातःकाल के समय पक्षियों का शब्द करना।
 शकुनी-(सं. स्त्री.) श्यामा पक्षी, मादा गौरैया, एक पूतना का नाम।
 शकुनी-(सं. पुं.) शकुनों का शुभाशुभ फल जाननेवाला।
 शकुनीश्वर-(सं. पुं.) गरुड़।

शकुनोपदेश—(सं. पुं.) शकुन-शास्त्र ।
 शकृत्—(सं. पुं.) विष्ठा, गोबर ।
 शकृत्द्वार—(सं. पुं.) गुदा ।
 शककर—(सं. पुं.) वृष, बैल; (हि. स्त्री.) चीनी, खाँड़ ।
 शकरी—(सं. स्त्री.) वर्षवृत्तों के अन्तर्गत चौदह अक्षरवाले छन्दों का नाम ।
 शक्री—(अ. वि.) जिसे शक हो, शक करनेवाला ।
 शक्त—(सं. वि.) समर्थ ।
 शक्तव—(सं. पुं.) भूने हुए अन्न का आटा, सत्तू ।
 शक्ति—(सं. स्त्री.) सामर्थ्य, बल, शौर्य, पराक्रम, लक्ष्मी, गौरी, प्रधान अष्ट-शक्तियाँ (जो इन्द्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, नारसिंही, वाराही, माहेश्वरी और भैरवी हैं), प्रकृति, माया, दुर्गा, तलवार, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से रामुन्नत राज्य, दूसरे पर प्रभाव डालनेवाला बल, न्याय के अनुसार वह संबंध जो किसी पदार्थ तथा उसका बोध करानेवाले शब्द में होता है; -कर—(वि.) बल देनेवाला; -ग्रह—(पुं.) शिव, महादेव, कार्तिकेय; -तः—(अव्य.) शक्ति के अनुसार; -धर—(पुं.) मालावरदार, कार्तिकेय; -पाणि—(पुं.) स्कन्द, कार्तिकेय; -पूजक—(पुं.) तान्त्रिक, वाममार्गी; -पूर्व—(पुं.) पराशर; -भृत्—कार्तिकेय; -मंत्र—(पुं.) शक्ति के उपासकों का मंत्र; -मत्, -मान् (वि.) बलवान्; -मत्ता—(स्त्री.) शक्तिमान् होने का भाव या धर्म; -मत्त्व—(पुं.) शक्तिमत्ता; -मय—(वि.) शक्तिपूर्ण; -वादी—(पुं.) शक्ति की उपासना करनेवाला; -वीर—(पुं.) वाममार्गी; -वैकल्य—(पुं.) असमर्थता; -हर—(वि.) बलनाशक; -हीन—(वि.) निर्बल, नपुंसक ।
 शक्ती—(सं. पुं.) एक प्रकार का मान्दिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में अठारह मात्राएँ होती हैं ।
 शक्नु—(सं. पुं.) भूने हुए अन्न का आटा, सत्तू ।
 शक्य—(सं. वि.) होने योग्य, क्रियात्मक, किया जाने योग्य, शक्तियुक्त, संभव; (पुं.) वह अर्थ जो शब्द की अभिधा-शक्ति से प्रकट हो; -ता—(स्त्री.) शक्य होने का भाव या धर्म ।
 शक्र—(सं. पुं.) दैत्यों का नाश करनेवाले इन्द्र, अर्जुन वृक्ष, ज्येष्ठा नक्षत्र, रण का घोषा भेद जिसमें ६ मात्राएँ होती

हैं; -कार्मुक—(पुं.) इन्द्रधनुष; -केतु—(पुं.) इन्द्रध्वज; -गोप—(पुं.) वीर-बहूटी; -चाप—(पुं.) इन्द्रधनुष; -जानु—(पुं.) रामायण के अनुसार एक वानर का नाम; -जाल—(पुं.) इन्द्रजाल; -जित्—(पुं.) मेघनाद; -तरु—(पुं.) माँग का पौधा; -दिश—(स्त्री.) पूर्व दिशा; -द्रुम—(पुं.) वक्रुल, मौलसिरी का पेड़; -धनु—(पुं.) इन्द्रधनुष; -नन्दन—(पुं.) अर्जुन; -नेमी—(पुं.) देवदार का वृक्ष; -पादप—(पुं.) शक्रनेमी; -पुष्पिका—(स्त्री.) नागदौना; -पुर—(पुं.) अमरावती; -प्रस्थ—(पुं.) इन्द्रप्रस्थ जिसको प्राचीन काल में पाण्डवों ने बसाया था; -वीज—(पुं.) इन्द्रियव; -भवन—(पुं.) स्वर्ग; -वाहन—(पुं.) मेघ, बादल; -शरासन—(पुं.) इन्द्रधनुष; -शाला—(स्त्री.) यज्ञ-भूमि में वह स्थान जहाँ इन्द्र के उद्देश्य से बलि दी जाती है; -सारथि—(पुं.) मातलि; -सुत—(पुं.) इन्द्र का पुत्र जयंत, बालि ।
 शक्राख्य—(सं. पुं.) पंचक, उल्लू ।
 शक्रानि—(सं. स्त्री.) विशाखा नक्षत्र ।
 शक्राणी—(सं. स्त्री.) इन्द्र की पत्नी, शची ।
 शक्रायुध—(सं. पुं.) इन्द्रधनुष ।
 शक्रारि—(सं. पुं.) इन्द्र का शत्रु ।
 शक्राशन—(सं. पुं.) विजया, माँग ।
 शक्रासन—(सं. पुं.) इन्द्र का आसन ।
 शक्ति—(सं. पुं.) वज्र, पर्वत ।
 शकल—(अ. स्त्री.) आकृति, स्वरूप ।
 शगुन—(हि. पुं.) देखें 'शकुन', भेंट, एक प्रकार की रीति जो विवाह की बातचीत पक्की होने पर की जाती है, टीका, तिलक ।
 शगुनिया—(हि. पुं.) शुभाशुभ शगुनों का विचार करनेवाला व्यक्ति ।
 शचि, शची—(सं. स्त्री.) इन्द्र की पत्नी; -पति—(पुं.) इन्द्र ।
 शचीश—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 शठ—(सं. पुं.) घतुरे का पेड़; (वि.) घूर्त, दुष्ट, बंचक, वदमाश, मूर्ख, पाँच प्रकार के नायकों में से एक जो छलपूर्वक अपना अपराध छिपाने में चतुर हो; -त्ता—(स्त्री.) घूर्तता; -त्व—(पुं.) शठता ।
 शठी—(सं. स्त्री.) कपूरकचरी ।
 शठीदर—(सं. वि.) घूर्त ।
 शण—(सं. पुं.) सन नाम का पौधा ।
 शणालूक—(सं. पुं.) अमलतास का वृक्ष ।

शत—(सं. वि.) दस का दस गुना, सौ; (पुं.) सौ की संख्या; -क—(पुं.) एक ही प्रकार की सौ वस्तुओं का संग्रह, सौ वर्षों का समूह, शताब्दी; -किरण—(पुं.) एक प्रकार की समाधि; -कुद—(पुं.) सफेद कनेर; -कुसुमा—(स्त्री.) शतपुष्पा, सौंफ; -कोटि—(पुं.) सौ करोड़ की संख्या; -क्रतु—(पुं.) इन्द्र; -खंड—(पुं.) सुवर्ण, सोना; -गु—(पुं.) सौ गायों का स्वामी; -गुण—(वि.) सौ-गुना; -घनी—(स्त्री.) एक प्रकार का प्राचीन शस्त्र; -वंडी—(स्त्री.) सौ बार चण्डी-स्तोत्र का पाठ; -च्छद—(पुं.) सौ पैकुड़ियों का कमल; -जटा—(स्त्री.) शतमली, सतावर; -जिह्व—(पुं.) शिव, महादेव; -तारा—(पुं.) शतभिषा नक्षत्र; -दल—(पुं.) पद्म, कमल; -दला—(स्त्री.) सेवती, गुलाव; -द्रु—(स्त्री.) सतलज नदी का प्राचीन नाम; -धन्वा—(पुं.) एक योद्धा जिसको कृष्ण ने मारा था; -धा—(अव्य.) सौ प्रकार से; -धामा—(पुं.) विष्णु; -घृति—(पुं.) इन्द्र, ब्रह्मा, स्वर्ग; -घौत—(वि.) सौ बार धोया हुआ; -पत्र—(पुं.) कमल, पद्म, मयूर, मोर, कठफोड़वा पक्षी; (वि.) सौ पत्तोंवाला, सौ पैकुड़ियोंवाला; -पत्रा—(स्त्री.) दूर्वा, दूब; -पत्री—(स्त्री.) एक प्रकार का गुलाब; -पय—(वि.) सैकड़ों मार्गों या शाखाओंवाला; -वाहण—(पुं.) यजुर्वेद का एक ब्राह्मण जिसमें कर्मकाण्ड का विस्तृत वर्णन है; -पयोप—(वि.) शतपथ ब्राह्मण-संबंधी; -पद—(पुं.) कनखजूरा, गोजर; -पदी—(स्त्री.) कनखजूरा, गोजर, सतावर; -पाल—(पुं.) वह जो सौ मनुष्यों का पालन करता हो; -पुत्री—(स्त्री.) सतपुतिया, तराई; -पुष्प—(पुं.) साठी घान; -पुष्पा—(स्त्री.) सोवे का साग; -वलि—(पुं.) रामायण के अनुसार एक वानर का नाम; -शह—(पुं.) एक असुर का नाम; (वि.) सौ गुजाओंवाला; -वृद्धि—(वि.) बहुत बुद्धिमान्; -भिया—(स्त्री.) अश्विनी आदि सत्साईस नक्षत्रों में से चौबीसवाँ नक्षत्र; -भोल—(पुं.) चमेली का पौधा; -मस्त—(पुं.) शत-क्रतु, इन्द्र; -मन्यु—(पुं.) उल्लूक, उल्ल; -मयूख—(पुं.) चन्द्रमा; -मल्ल—(पुं.) संख्या नामक विप; -मस्त—

(पुं.) एक असुर का नाम; -मुखी- (स्त्री.) दुर्गा; -मूला- (पुं.) रुद्र का एक रूप; -रुद्र- (पुं.) रुद्र का एक रूप जो सौ मुखोंवाला है; -रूपा- (स्त्री.) ब्रह्मा की मानसी कन्या और पत्नी, (इन्ही के गर्भ से स्वायंभुव मनु की उत्पत्ति हुई थी); -लक्ष- (पुं.) सौ लाख, करोड़; -वार्षिक- (वि.) सौ वर्षों पर होनेवाला; -वाही- (स्त्री.) वह स्त्री जो अपने पिता के घर से ससुराल में बहुत-सा धन लाई हो; -वीर- (पुं.) विष्णु का एक नाम; -वीर्या- (स्त्री.) शतावर, सफेद मूसली; -शः- (अव्य.) सैकड़ों प्रकार से; -शीर्ष- (पुं.) विष्णु का एक नाम; -संवत्सर- (पुं.) सौ वर्ष; -सहस्र- (पुं.) एक लाख; -सहस्राब्द- (पुं.) चन्द्रमा।
 शतरंज- (फा. पुं.) १६-१६ गोठियों से ६४ खानोंवाले विसात पर दो व्यक्तियों द्वारा खेला जानेवाला प्रसिद्ध खेल।
 शतरंजी- (फा. वि.) शतरंज का, शतरंज-संबंधी; (स्त्री.) दरी, शतरंज की विसात।
 शतांश- (सं. पुं.) सौवाँ भाग।
 शताक्षी- (सं. स्त्री.) दुर्गा, पार्वती, रात्रि, सौंफ।
 शतानंद- (सं. पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, देवकी-नन्दन।
 शतानन- (सं. पुं.) विल्व, वेल।
 शतानीक- (सं. पुं.) वृद्ध पुरुष, एक मुनि जो व्यास के शिष्य थे, जनमेजय के पुत्र का नाम, नकुल का एक पुत्र जो द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, एक असुर का नाम, सौ सैनिकों का नायक।
 शताब्दी- (सं. स्त्री.) सौ वर्षों का समय।
 शतायु- (सं. वि., पुं.) (वह) जिसकी आयु सौ वर्षों की हो।
 शतायुध- (सं. वि.) जो सौ अस्त्र धारण करता हो।
 शतार- (सं. पुं.) वज्र, सुदर्शन चक्र।
 शतार्थ- (सं. वि., पुं.) पचास।
 शतावधान- (सं. पुं.) वह मनुष्य जो एक साथ बहुत-सी बातों को सुनकर उनको क्रम से याद रखता हो, वह जो एक साथ अनेक काम करता हो।
 शतावधानी- (सं. पुं.) शतावधान; (स्त्री.) एक साथ बहुत से काम करना।
 शतावर- (सं. पुं.) सफेद मूसली।
 शतावरी- (सं. स्त्री.) इन्द्र की भार्या।
 शतावर्त- (सं. पुं.) विष्णु, महादेव।
 शताष्टक- (सं. पुं.) एक सौ आठ।

शताह्व- (सं. स्त्री.) सतावर।
 शती- (सं. स्त्री.) सौ का समूह, शताब्दी।
 शतेश- (सं. पुं.) सौ गाँवों का अधिपति।
 शतोदर- (सं. पुं.) शिव, महादेव।
 शत्रि- (सं. पुं.) हस्ती, हाथी।
 शत्रुंतप- (सं. वि.) शत्रु को जीतनेवाला।
 शत्रुदम- (सं. पुं.) शिव, महादेव; (वि.) शत्रु को दमन करनेवाला।
 शत्रु- (सं. पुं.) रिपु, वैरी, अरि, द्वेषी; -कंटका- (स्त्री.) सुपारी; -घाती- (वि.) शत्रु का नाश करनेवाला; (पुं.) शत्रुघ्न के एक पुत्र का नाम; -घ्न- (पुं.) रामचन्द्र के एक भाई जो सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे; -जित्- (पुं.) शत्रु को जीतनेवाला; -ता- (स्त्री.) वैर-भाव; -त्व- (पुं.) शत्रुता; -ताई- (हिं. स्त्री.) शत्रुता; -निवहण- (पुं.) शत्रु का नाश; -निलय- (पुं.) शत्रु के रहने का स्थान; -बाधक- (वि.) शत्रु को पीड़ा देनेवाला; -मर्दन- (पुं.) शत्रुओं का नाश करनेवाला, शत्रुघ्न; -बल- (पुं.) शत्रु की सेना; -वत्- (अव्य.) शत्रु के समान; -विनाशन- (पुं.) शिव, महादेव; -साल- (हिं. वि.) शत्रु के हृदय में शूल उत्पन्न करनेवाला; -हंता- (वि.) शत्रु का नाश करनेवाला।
 शक्वरी- (सं. स्त्री.) रात्रि, रात।
 शक्क- (सं. पुं.) भूसी-सहित अन्न।
 शनि- (सं. पुं.) शनैश्चर ग्रह, (यह सूर्य से अधिक दूरी पर है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको उन्तीस वर्ष एक सौ सड़सठ दिन लगते हैं। इसका व्यास प्रायः सत्तर हजार मील है। यह पृथ्वी से सात गुना बड़ा तथा नब्बे गुना भारी है। दूर-बीन से देखने पर यह ज्योतिर्मय बलय से घिरा हुआ दिखाई पड़ता है); -प्रदोष- (पुं.) शनिवार के दिन होने-वाला प्रदोष; -प्रिय- (पुं.) नीलमणि, नीलम; -रुह- (पुं.) भैंसा; -वार- (पुं.) वह वार जो शुक्रवार के बाद तथा रविवार के पहले पड़ता है।
 शनैः- (सं. अव्य.) धीरे-धीरे।
 शनैश्चर- (सं. पुं.) शनि ग्रह।
 शपथ- (सं. पुं.) सौगन्ध; -पत्र- (पुं.) शपथपूर्वक लिखा हुआ पत्र।
 शप्त- (सं. वि., पुं.) (वह मनुष्य) जिसको शाप दिया गया हो।
 शफ- (सं. पुं.) पशु का खुर, वृक्ष की जड़।
 शफरुक- (सं. पुं.) संदूक, पेटो।

शफा- (अ. पुं.) आरोग्य; -खाना- (पुं.) चिकित्सालय।
 शवनम- (फा. स्त्री.) ओस।
 शबल- (सं. वि.) चितकवरा।
 शबलक- (सं. वि.) रंगबिरंगा, चितकवरा।
 शबलता- (सं. स्त्री.) चितकवरापन।
 शबला- (सं. स्त्री.) चितकवरी गाय, कामधेनु।
 शबलित- (सं. वि.) चितकवरा।
 शब्द- (सं. पुं.) आवाज, ध्वनि, नाद, वह सार्थक ध्वनि जिससे किसी पदार्थ या भाव का बोध होता है; -कार- (वि.) ध्वनिकारक; -कोश (ष)- (पुं.) वह ग्रंथ जिसमें अक्षर-क्रम से शब्दों के अर्थ, पर्याय आदि संकलित हों, अभिधान; -ग- (वि.) वायु; -ग्रह- (पुं.) कर्ण, कान; -त्रालुय- (पुं.) बोलचाल में प्रवीणता; -चित्र- (पुं.) अनुप्रास नामक अलंकार; -नृत्य- (पुं.) एक प्रकार का नाच; -पति- (पुं.) नाम मात्र का नेता; -प्रभेद- (पुं.) शब्द की विभिन्नता; -प्रकाश- (पुं.) शब्द के अर्थों का निरूपण; -प्रमाण- (पुं.) वह प्रमाण जो किसी के मौखिक कथन के आधार पर हो; -ब्रह्म- (पुं.) शब्दात्मक ब्रह्म, उच्चार, वेद, श्रुति; -भेदी- (पुं.) देखें 'शब्दवेधी'; -मय- (वि.) शब्द से गूँजता हुआ; -महेश्वर- (पुं.) महादेव; -मात्र- (पुं.) केवल शब्द; -माला- (स्त्री.) शब्दसमूह; -योनि- (स्त्री.) शब्द की उत्पत्ति; -रहित- (वि.) निःशब्द, शब्द से रहित; -वत्- (अव्य.) शब्द के समान; -वारिधि- (पुं.) शब्दों का समूह, शब्दसागर; -विद्या- (स्त्री.) (स्त्री.) व्याकरण; -विज्ञान- (पुं.) वह शास्त्र जिसमें शब्द-विषयक तत्त्वों का निरूपण होता है; -विरोध- (पुं.) विरुद्धार्थक शब्द का व्यवहार; -वेधी- (पुं.) वह धनुर्धारी जो आँखों से बिना देखे केवल शब्द से लक्ष्य का निरूपण करके उसे अचूक रूप से वाण से मारता है, अर्जुन, दशरथ; -शक्ति- (स्त्री.) शब्द की वह शक्ति जिसके द्वारा उसका अर्थ व्यक्त होता है; -शासन- (पुं.) व्याकरण शास्त्र; -शास्त्र- (पुं.) व्याकरण; -श्लेष- (पुं.) वह अलंकार जिसमें एक शब्द का दो या दो से अधिक अर्थों में प्रयोग हो; -संभव- (पुं.) वायु; -साधन- (पुं.)

व्याकरण का वह अंग जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, भेद, रूपान्तर आदि का विवेचन होता है; -सिद्धि-(स्त्री.) शब्द का शुद्ध प्रयोग; -सौंदर्य,सौष्ठव-(पुं.)लेख में शब्दों की सुंदर योजना; -स्मृति-(स्त्री.) शब्द का स्मरण; -हीन-(वि.) शब्दरहित।

शब्दाकर-(सं.पुं.) शब्दों का उत्पत्ति-स्थान।

शब्दाक्षर-(सं.पुं.)शब्द में प्रयुक्त अक्षर, अक्षर।

शब्दाडंबर-(सं. पुं.) बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग जिसमें भाव की कमी हो, शब्दजाल।

शब्दातिग-(सं. पुं.) विष्णु।

शब्दातीत-(सं. वि., पुं.) (बहु) जो शब्द से परे हो, ईश्वर।

शब्दाधिष्ठान-(सं. पुं.) शब्द का आश्रय-स्थान, कान।

शब्दाध्याहार-(सं. पुं.) वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिये उपयुक्त शब्द जोड़ना।

शब्दानुकरण-(सं.पुं.) शब्द का अनुकरण।

शब्दानुशासन-(सं.पुं.) व्याकरण।

शब्दायमान-(सं.वि.)शब्द करता हुआ।

शब्दार्थ-(सं. पुं.) किसी शब्द का अर्थ।

शब्दालंकार-(सं. पुं.) साहित्य में बहु अलंकार जिसमें केवल शब्दों या पदों के विन्यास से भाषा में लालित्य उत्पन्न किया जाता है।

शब्दित-(सं. वि.) ध्वनित, जिससे शब्द निकला हो।

शब्दद्वय-(सं. स्त्री.) कर्ण, कान।

शम-(सं. पुं.) शान्ति, मोक्ष, निवृत्ति, क्षमा, उपचार, अन्तःकरण अथवा बाह्य इन्द्रियों का निग्रह, साहित्य में शान्त रस का स्थायी भाव, संयम, तिरस्कार;

-क-(वि.) शान्तिकारक; -गिरा-(स्त्री.) शान्ति-कथा।

शमन-(सं. पुं.) यज्ञ के लिये पशुओं का बलिदान, निवृत्ति, चित्त की स्थिरता, शान्ति, हिंसा, प्रतिसंहार, आघात, तिरस्कार; (वि.) निवारण करनेवाला;

-स्वसा-(स्त्री.) यम की वहिन, यमुना।

शमनी-(सं. स्त्री.) रात्रि, रात।

शमनीय-(सं. वि.) शमन करने योग्य।

शमल-(सं. पुं.) पाप, विष्ठा।

शमशेर-(फा. स्त्री.) तलवार, खड्ग।

शमा-(फा. स्त्री.) मोमवत्ती, दीया;

-दान-(पुं.) मोमवत्तियों का आधान, दीवट।

शमि-(सं. स्त्री.) शमी वृक्ष।

शमिक-(सं.पुं.) एक प्राचीन ऋषि का नाम।

शमित-(सं. वि.) शमन या शांत किया हुआ।

शमिता-(सं. पुं.) शान्तिकारक, यज्ञ में पशु का बलिदान करनेवाला।

शमिष्ठ-(सं. वि.) अति शान्त।

शमी-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का कांटेदार वृक्ष; (वि.) शान्त।

शमीक-(सं.पुं.) एक प्रसिद्ध ऋषि, (तपस्या करते समय राजा परीक्षित ने इनके गले में मरा हुआ साँप डाल दिया था।)

शमीगर्भ-(सं. पुं.) ब्राह्मण, अग्नि।

शमीर-(सं. पुं.) शमी वृक्ष; -कंद-(पुं.) वाराहीकंद।

शय-(सं. वि.) हाथ, शय्या, साँप, नींद।

शयत्-(सं. पुं.) निद्रालु व्यक्ति, वह जिसको नींद आ रही हो।

शयथ-(सं.पुं.) अजगर, शूकर, मृत्यु, सर्प।

शयन-(सं. पुं.) निद्रा, शय्या, स्त्री-प्रसंग, मैथुन; -आरती-(स्त्री.) देवता की वह आरती जो रात्रि के समय की जाती है;

-कक्ष-(पुं.) सोने का कमरा; -गृह-(पुं.) सोने का कमरा या घर; -प्रकोष्ठ-(पुं.) शयनगृह;

-बोधिनी-(स्त्री.) अगहन मास के कृष्णपक्ष की एकादशी; -भूमि-(स्त्री.) सोने का स्थान; -मंदिर-(पुं.) शयनागार, सोने का कमरा; -महल-(हि. पुं.) शयन का कमरा; -स्थान-(पुं.) सोने का स्थान।

शयनागार-(सं. पुं.) शयनगृह।

शयनास्पद-(सं. पुं.) विछौना।

शयनीय-(सं. वि.) शयन के योग्य, सोने लायक; -गृह-(पुं.) शयनागार;

-वास-(पुं.) वे वस्त्र जो सोते समय पहने जाते हैं।

शयनैकादशी-(सं. स्त्री.) आपाढ़ शुक्ला एकादशी जिस दिन विष्णु के शयन का आरंभ माना जाता है।

शयांडक-(सं. पुं.) गिरगिट।

शयान-(सं. वि.) निद्रित, जो सोया हो।

शयालु-(सं. वि.) जिसको नींद आती हो।

शयित-(सं. वि.) निद्रालु, सोया हुआ।

शयितव्य-(सं. वि.) सोने योग्य।

शय्या-(सं. स्त्री.) सेज, पलंग, खाट; -गत-(वि.) विछौने पर सोया हुआ;

-दान-(पुं.) मृतक के उद्देश्य से चारपाई, बिछावन आदि का दान;

-पाल-(पुं.) राजाओं के शयनागार का प्रबन्ध करनेवाला; -वेश्म-(पुं.)

सोने का घर।

शरंड-(सं. पुं.) पक्षी, कामुक, धूर्त, गिरगिट, छिपकली।

शर-(सं. पुं.) बाण, तीर, सरकंडा, नरकट, जल, पाँच की संख्या, दूध की मलाई, उशीर, खस, भाले का फल।

शरकांड-(सं. पुं.) शरकंडा, सरपत।

शरकार-(सं. पुं.) तीर बनानेवाला।

शरगुल्म-(सं. पुं.) सरकंडा।

शरघात-(सं. पुं.) तीर की चोट।

शरच्चंद्र, शरच्छशि-(सं. पुं.) शरद्काल का चन्द्रमा।

शरच्छिखी-(सं. पुं.) मयूर, मोर।

शरज-(सं. वि.) सरकंडे का वना हुआ।

शरज्ज्योत्स्ना-(सं. स्त्री.) शरद्काल की चन्द्रिका।

शरट-(सं. पुं.) कृकलास, गिरगिट।

शरण-(सं.पुं.) आश्रय, रक्षा, घर, आश्रय-स्थान, अधीन या आश्रित व्यक्ति।

शरणागत, शरणापन्न-(सं. वि.) शरण में आया हुआ।

शरणार्थी-(सं. वि.) शरण चाहनेवाला।

शरणालय-(सं. पुं.) आश्रय-स्थान।

शरणी-(सं. स्त्री.) मार्ग; (हि. वि. स्त्री.) शरण देनेवाली।

शरण्य-(सं. वि.) शरणागत की रक्षा करनेवाला।

शरण्या-(सं. स्त्री.) शरणागत की रक्षा करनेवाली, दुर्गा।

शरत्-(सं. स्त्री.) वर्ष, वह ऋतु जो वार और कार्तिक महीने में होती है; -काल-(पुं.) शरद्ऋतु; -पर्व-(पुं.); -पूर्णिमा-(स्त्री.) आश्विन मास की पूर्णिमा; -समय-(पुं.) शरद्काल।

शरदंड-(सं. पुं.) सरकंडा, चावुक।

शरदंत-(सं. पुं.) हेमन्त ऋतु।

शरदिडु-(सं. पुं.) शरत्ऋतु का चन्द्रमा।

शरदिज-(सं. वि.) शरत्ऋतु में उत्पन्न होनेवाला।

शरद्वत्-(सं. पुं.) एक प्राचीन ऋषि का नाम।

शरधि-(सं. पुं.) तूण, तरकश।

शरपट्टी-(हि. पुं.) एक प्रकार का शस्त्र।

शरपुंख-(सं.पुं.) बाण में लगा हुआ पर, सरफोंका नामक धूप।

शरवत-(अ. पुं.) मयूर पेय, चीनी आदि का रस।

शरवत-पिलाई-(हि. स्त्री.) वह धन जो कन्या-पक्ष के लॉग वर-पक्ष को शरवत पिलाते समय देते हैं।

शरवती—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पीला रंग, एक प्रकार का अच्छा कपड़ा, मीठा नींबू, फालसा; (वि.) रसदार, सरस।
शरभंग—(सं. पुं.) एक महर्षि का नाम जिनका दर्शन करने के लिये रामचन्द्र वनवास-काल में गये थे।

शरभ—(सं. पुं.) सिंह, हाथी का वच्चा, टिड्डी, राम की सेना का एक यूथपति बंदर का नाम, ऊँट, विष्णु, एक प्रकार का पक्षी, एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पंद्रह अक्षर होते हैं, (इसको शशिकला या मणिगुण भी कहते हैं), दोहे का एक भेद, आठ पैरोंवाला एक कल्पित मृग।

शरभा—(सं. स्त्री.) शुष्क अवयवोंवाली विवाह के अयोग्य कन्या।

शरभू—(सं. पुं.) कार्तिकेय।

शरभ—(हिं. स्त्री.) लज्जा।

शरभाऊ—(हिं. वि.) लज्जालु।

शरमाना—(हिं. क्रि. अ.) लज्जा का अनुभव करना।

शरमिंदगी—(हिं. स्त्री.) लज्जा, शरम।

शरमिंदा—(हिं. वि.) लज्जित।

शरमीला—(हिं. वि.) लज्जालु।

शरमुख—(सं. पुं.) वाण का अग्रभाग।

शरयु(यु)—(सं. स्त्री.) सरयू नदी।

शरल—(सं. वि.) सरल, स्वच्छ-हृदय।

शरवत्—(सं. वि.) वाण के तुल्य।

शरवाणि—(सं. पुं.) तीर का फल।

शरवारण—(सं. पुं.) ढाल।

शरवृष्टि—(सं. स्त्री.) वाणों की वर्षा।

शरशय्या—(सं. स्त्री.) वाणों की बनी हुई शय्या।

शरस—(सं. पुं.) शर, वाण, तीर।

शराकत—(फा. स्त्री.) साझा, हिस्सेदारी।

शराघात—(सं. पुं.) वाण का आघात।

शराटि—(सं. पुं.) टिटिहरी नामक पक्षी।

शरापना—(हिं. क्रि. स.) शाप देना।

शराफत—(अ. स्त्री.) सज्जनता।

शराब—(अ. स्त्री.) मद्य, मदिरा;

-खाना—(पुं.) शराब की दुकान;

-खोरी—(स्त्री.) मद्यपान।

शराबी—(हिं. पुं.) शराब पीनेवाला।

शराभ्यास—(सं. पुं.) वाणशिक्षा।

शरारत—(अ. स्त्री.) पाजीपन, दुष्टता।

शरारती—(हिं. वि.) शरारत करनेवाला।

शरारोप—(सं. पुं.) धनुष, कमान।

शराव—(सं. पुं.) मिट्टी का पात्र, कसोरा,

पुरवा, एक सेर का परिमाण।

शरावर—(सं. पुं.) ढाल, कवच।

शरावरण—(सं. पुं.) तीर का वार रोकने

की ढाल।

शरावाप—(सं. पुं.) धनुष, कमान।

शराविका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का कुष्ठ रोग।

शराश्रय—(सं. पुं.) तूण, तरकश।

शरासन—(सं. पुं.) धनुष, कमान, धृत-राष्ट्र के एक पुत्र का नाम।

शरिष्ठ—(हिं. वि.) श्रेष्ठ, उत्तम।

शरीक—(अ. वि.) सम्मिलित, साझी।

शरीफ—(अ. वि.) सज्जन।

शरीफा—(हिं. पुं.) मझोले आकार का एक प्रकार का प्रसिद्ध वृक्ष जिसका फल बहुत मीठा होता और कार्तिक में पकता है, सीताफल, श्रीफल।

शरीर—(सं. पुं.) गात्र, कलेवर, देह;

-कर्ता—(वि.) सृष्टिकर्ता; -ज-

(पुं.) रोग, कामदेव; -त्याग—(पुं.)

मृत्यु; -धातु—(स्त्री.) वीर्य, रक्त और

मांस; -पतन—(पुं.) मृत्यु; -पात-

(पुं.) शरीर का नाश; -प्रभ—(पुं.)

शरीर से उत्पन्न; -बंध—(पुं.) देह का

ढाँचा; -भाज—(पुं.) शरीरधारी;

-भूत्—(वि.) देहधारी; -रक्षक-

(पुं.) वह सैनिक जो राजा आदि की

रक्षा के लिये सर्वदा उनके साथ

रहता है; -वृत्ति—(स्त्री.) जीविका;

-शास्त्र—(पुं.) शरीर-विज्ञान, वह शास्त्र

जिसमें शरीर के सब अवयवों की

रचना, इनके कार्य आदि का विवेचन

होता है; -शुश्रूषा—(स्त्री.) देह की

सेवा; -शोषण—(पुं.) देह का क्षय;

-संस्कार—(पुं.) गर्माधान से लेकर

अन्त्येष्टि तक के मनुष्य के सोलह

संस्कार; -स्थ—(वि.) जीवित, जीता

हुआ।

शरीराल—(सं. पुं.) मृत्यु, मौत।

शरीरार्पण—(सं. पुं.) किसी कार्य में अपने

शरीर को पूर्ण रूप से लगा देना।

शरीरावरण—(सं. पुं.) चर्म, चमड़ा, खाल।

शरीरी—(सं. पुं.) शरीरधारी, प्राणी,

जन्तु, चेतन, जीवधारी।

शरेज—(सं. पुं.) कार्तिकेय।

शर्कर—(सं. पुं.) चीनी, कंकड़, बालू का

कण; -क—(पुं.) शरवती नींबू; -जा-

(स्त्री.) चीनी।

शर्करा—(सं. स्त्री.) शक्कर, खाँड़, चीनी,

उपल, कंडा, ठीकरा, बालू का कण।

शर्करी—(सं. स्त्री.) चौदह अक्षरों का

एक वर्णवृत्त, लेखनी, मेखला, नदी।

शर्करीय—(सं. वि.) चीनी का।

शर्कोट—(सं. पुं.) सर्प, साँप।

शर्त—(अ. स्त्री.) प्रतिबंध, प्रतिज्ञा, बाजी।

शर्तिया—(अ. वि., अव्य.) अवश्य, बदकर।

शर्वत—(हिं. पुं.) देखें 'शरवत'।

शर्म—(फा. स्त्री.) देखें 'शरम'।

शर्मकृत्—(सं. वि.) मंगलकारी।

शर्मण्य—(सं. वि.) सुख के योग्य।

शर्मद—(सं. वि.) आनन्द देनेवाला।

शर्मन्—(सं. पुं.) सुख, आनन्द; (पुं.)

ब्राह्मणों की एक उपाधि।

शर्मरी—(सं. स्त्री.) दारुहल्दी।

शर्मा—(सं. पुं.) ब्राह्मणों की एक उपाधि।

शर्मिष्ठा—(सं. स्त्री.) वृषपर्वा नामक असुरराज की कन्या जो देवयानी की सहेली थी।

शर्मा—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात।

शर्व—(सं. पुं.) शिव, महादेव, विष्णु;

-पत्नी—(स्त्री.) पार्वती, लक्ष्मी;

-पर्वत—(पुं.) कैलास।

शर्वर—(सं. पुं.) अन्वकार, अँघेरा, कामदेव।

शर्वरी—(सं. स्त्री.) निशा, रात्रि, रात,

हल्दी, सन्ध्या, शाम; -कर—(पुं.)

विष्णु; -दीपक—(पुं.) चन्द्रमा।

शर्वरीश—(सं. पुं.) चन्द्रमा।

शर्वाक्ष—(सं. पुं.) रुद्राक्ष।

शर्वाचल—(सं. पुं.) कैलास।

शर्वाणी—(सं. स्त्री.) पार्वती।

शर्शरीक—(सं. पुं.) घोड़ा, अग्नि।

शर्षीका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द।

शल—(सं. पुं.) ताड़ का वृक्ष, ब्रह्मा, कंस का मंत्री, धृतराष्ट्र का पुत्र।

शलक—(सं. पुं.) साही का काँटा।

शलगम, शलजम—(अ. पुं.) गाजर की तरह का एक कंद।

शलभ—(सं. पुं.) शरम, टिड्डी, छप्पय छन्द का एक भेद।

शलल—(सं. पुं.) साही का काँटा।

शललित—(सं. वि.) काँटों से युक्त।

शलली—(सं. स्त्री.) शलल।

शलक—(सं. पुं.) सलाई; -धूर्त—(पुं.)

चिड़ीमार, बहेलिया।

शलका—(सं. स्त्री.) लोहे, लकड़ी आदि की लंबी सलाई, सीक, मैना पक्षी,

छाते की कमानी, शर, वाण, चित्रकार की कूची, जुआ खेलने का पासा, सुरमा लगाने की सलाई।

शलानुर—(सं. पुं.) प्रसिद्ध वैयाकरण

पाणिनि की वासभूमि।

शल्लि—(सं. स्त्री.) साही नामक जंतु।

शलक—(सं. पुं.) वल्कल, छिलका।

शल्प-(हि. पुं.) बाढ़, बौछार, घड़ाका ।
 शल्मलि-(सं. पुं.) सेमल का वृक्ष ।
 शल्य-(सं. पुं.) वाण, भाले के आकार का एक अस्त्र, पाप, दुर्वाक्य, अस्थि, हुड्डी, छप्पय छन्द का एक भेद, अस्त्र-चिकित्सा; -कंठ-(पुं.) साही नामक जंतु; -की-(स्त्री.) साही नामक जंतु; -क्रिया, -चिकित्सा-(स्त्री.) फोड़े आदि की चीर-फाड़ करने की विधि; -शास्त्र-(पुं.) चिकित्सा-शास्त्र का वह अंग जिसमें शरीर में फोड़े आदि को चीर-फाड़कर नीरोग किया जाता है ।
 शल्यारि-(सं. पुं.) शल्यराज को मारने-वाले युधिष्ठिर ।
 शल्योद्धार-(सं. पुं.) शरीर में गड़े हुए वाण या काँटे आदि निकालने की क्रिया ।
 शल्ल-(सं. पुं.) त्वचा, चमड़ा, वृक्ष की छाल; -की-(स्त्री.) साही नामक जंतु ।
 शल्लिका-(सं. स्त्री.) नौका, नाव ।
 शल्व-(सं. पुं.) देखें 'शाल्व' ।
 शव-(सं. पुं.) मृत शरीर, लाश; -दाह-(पुं.) मनुष्य के मृत शरीर को जलाने की क्रिया; -भस्म-(पुं.) चिता की भस्म, मरघट की राख; -मंदिर-(पुं.) मरघट; -यान-(पुं.) शव ले जाने की अरथी; -रथ-(पुं.) शवयान, अरथी; -वाह-(पुं.) शव को ढोने-वाला; -शयन-(पुं.) श्मशान, मरघट; -साधन-(पुं.) शव के ऊपर बैठकर तन्त्रोक्त मन्त्र को सिद्ध करना; -सान-(पुं.) पथिक, यात्री ।
 शवल-(सं. वि.) चितकवरा ।
 शवला-(सं. स्त्री.) चितकवरी गाय ।
 शवलित-(सं. वि.) मिश्रित, मिलाया हुआ ।
 शवाग्नि-(सं. स्त्री.) शवदाह की अग्नि ।
 शवोद्धह-(सं. पुं.) शव ढोनेवाला ।
 शश-(सं. पुं.) खरहा, चन्द्रमा का लांछन या कलंक, कामशास्त्र के अनुसार मनुष्य के चार भेदों में से एक; -फ-(पुं.) खरहा; -घातक-(पुं.) वाज पक्षी; -घर-(पुं.) चन्द्रमा, कपूर; -भूत्-(पुं.) चन्द्रमा, कपूर; -मौलि-(पुं.) शिव, महादेव; -लक्षण, -लांछन-(पुं.) चन्द्रमा; -विदु-(पुं.) विष्णु, चित्ररथ के एक पुत्र का नाम; -विषाण-(पुं.) असंभव वात; -शृंग-(पुं.) कोई अनहोनी या असंभव वात; -स्थली-(स्त्री.) गंगा और यमुना के मध्य का प्रदेश ।
 शशांक-(सं. पुं.) चन्द्रमा, कपूर; -ज-(पुं.) बुध ग्रह ।

शशाद-(सं. पुं.) श्येन पक्षी, वाज ।
 शशि, शशी-(सं. पुं.) चन्द्रमा, छप्पय छन्द का एक भेद; -कर-(पुं.) चन्द्रमा की किरण; -कला-(स्त्री.) चन्द्रमा की कला, एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पंद्रह मात्राएँ होती हैं; -कांत-(पुं.) कुमुदिनी; -कुल-(पुं.) चन्द्रवंश; -खंड-(पुं.) चन्द्रमा की कला; -ज-(पुं.) बुध ग्रह; -तनय-(पुं.) चन्द्रमा के पुत्र, बुध ग्रह; -तिथि-(स्त्री.) पूर्णमासी; -घर-(पुं.) महादेव; -पर्ण-(पुं.) परवल; -पुत्र-(पुं.) बुध ग्रह; -पुष्प-(पुं.) पद्म, कमल; -पोषक-(पुं.) शुक्ल पक्ष; -प्रभ-(पुं.) कुमुद, कुई, मोती; (वि.) चन्द्रमा के समान प्रभावाला; -प्रभा-(स्त्री.) ज्योत्स्ना, चन्द्रिका; -प्रिय-(पुं.) मुक्ता, मोती; -प्रिया-(स्त्री.) सत्ताईस नक्षत्र जिन्हें चन्द्रमा की पत्नियाँ मानते हैं; -भाल-(पुं.) शिव, महादेव; -भूषण-(पुं.) महादेव; -मंडल-(पुं.) चन्द्रमण्डल; -मणि-(पुं.) चन्द्रकान्त मणि; -मुख-(वि.) अति मनोहर मुखवाला; -मौलि-(पुं.) शिव; -रस-(पुं.) अमृत; -रेखा-(स्त्री.) चन्द्रमा की एक कला; -लेखा-(स्त्री.) चन्द्रमा की कला, एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पंद्रह अक्षर होते हैं; -वदन-(वि.) सुन्दर मुखवाला; -वदना-(स्त्री.) चन्द्रमुखी, एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ६ अक्षर होते हैं; -विमल-(वि.) चन्द्रमा के समान स्वच्छ; -शाला-(स्त्री.) शीशमहल; -शिखामणि-(पुं.) शिव, महादेव; -शेखर-(पुं.) शिव, महादेव; -शोषक-(पुं.) कृष्ण पक्ष; -सुत-(पुं.) बुध ग्रह; -होरा-(हि. पुं.) चन्द्रकान्त मणि ।
 शशीश-(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 शश्वत्-(सं. वि.) बहुत अधिक; (अव्य.) वारंवार ।
 शष्कुल-(सं. पुं.) करंज ।
 शष्कुली-(सं. स्त्री.) कर्णरन्ध्र, कान का छेद ।
 शप्प-(सं. पुं.) नई घास, नव तृण ।
 शस्त-(सं. पुं.) कल्याण, भलाई; (वि.) प्रशंसा किया हुआ, प्रशस्त, उत्तम ।
 शस्तक-(सं. पुं.) हाथ में पहनने का चमड़े का त्राण ।
 शस्तता-(सं. स्त्री.) प्रस्ताव, फैलाव ।
 शस्ति-(सं. स्त्री.) स्तुति, प्रशंसा ।

शस्त्र-(सं. पुं.) लोहा, अस्त्र, खड्ग, तलवार; -कर्म-(पुं.) घाव या फोड़े को चीरना; -क्रिया-(स्त्री.) देखें 'शस्त्रकर्म'; -गृह-(पुं.) शस्त्र रखने का घर; -जीवी-(पुं.) सैनिक; -पाणि-(वि.) जिसके हाथ में शस्त्र हो; -प्रहार-(पुं.) शस्त्र का आघात; -ब्रंघ-(पुं.) शस्त्र द्वारा बाँधना; -भूत्-(पुं.) शस्त्रधारी सैनिक; -वत्-(वि.) शस्त्र के समान; -विद्या-(स्त्री.) शस्त्र चलाने की विद्या, धनुर्वेद; -वृत्ति-(वि.) शस्त्र चलाना ही जिसकी जीविका हो; -शाला-(स्त्री.) शस्त्र-गृह; -शास्त्र-(पुं.) धनुर्वेद; -शिक्षा-(स्त्री.) शस्त्र चलाने की विद्या; -हृत-(वि.) शस्त्र के आघात से मरा हुआ; -हस्त-(पुं.) शस्त्रधारी मनुष्य ।
 शस्त्रागार-(सं. पुं.) शस्त्रशाला ।
 शस्त्रान्यास-(सं. पुं.) शस्त्रशिक्षा ।
 शस्त्रायुध-(सं. वि.) शस्त्रधारी ।
 शस्त्री-(सं. वि.) शस्त्र चलानेवाला; (पुं.) सैनिक ।
 शस्त्रोपजीवी-(सं. वि., पुं.) शस्त्र द्वारा अपनी जीविका चलानेवाला, सैनिक ।
 शस्य-(सं. पुं.) वृक्ष, लता आदि का फल, फसल ।
 शहंशाह-(फा. पुं.) सम्राट् ।
 शहंशाही-(फा. वि.) शहंशाह का, शहंशाह-संबंधी ।
 शह-(फा. पुं., स्त्री.) शतरंज के खेल में बादशाह को दी गई किशत ।
 शहजादा-(फा. पुं.) राजकुमार ।
 शहजादी-(फा. स्त्री.) राजकुमारी ।
 शहजोर-(फा. वि.) बलवान ।
 शहजोरी-(फा. स्त्री.) बल, दबाव, धाक, जबरदस्ती ।
 शहतूत-(फा. पुं.) एक प्रकार का फल ।
 शहद-(फा. पुं.) मधु ।
 शहनाई-(फा. स्त्री.) एक प्रकार का वाद्य-यंत्र ।
 शहवाला-(फा. पुं.) दूल्हे के साथ रहने-वाला बालक ।
 शहर-(फा. पुं.) नगर ।
 शहरी-(फा. वि.) शहर का, नहर-संबंधी ।
 शहाना-(फा. पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग; (वि.) उत्तम, बढ़िया ।
 शहावा-(हि. पुं.) देखें 'अगिया-वैतान' ।
 शहावी-(हि. वि.) गहरे लाल रंग का ।
 शहीद-(अ. पुं.) आत्म-बलिदान करने-वाला योद्धा ।

शाकर—(सं. पुं.) आर्द्रा नक्षत्र, एक छन्द का नाम, शंकराचार्य का अनुयायी; (वि.) शंकर-संबंधी; —भाष्य—(पुं.) एक प्रसिद्ध वेदान्त-दर्शन।
 शांकरि—(सं. स्त्री.) शिवसूत्र।
 शांख—(सं. पुं.) शंख की ध्वनि।
 शांखिक—(सं. पुं.) शंख बजानेवाला।
 शांडिल्य—(सं. पुं.) एक गोत्र-प्रवर्तक ऋषि, इनके कुल में उत्पन्न व्यक्ति।
 शांत—(सं. वि.) सौम्य, गंभीर, मौन, चुप, जितेन्द्रिय, उत्साहरहित, शिथिल, श्रान्त, थका हुआ, स्थिर, मरा हुआ, विघ्न या बाधरहित, दुर्बल, मनो-विकाररहित, जो उद्दीप्त न हो; (पुं.) काव्य के नौ रसों में से एक; —तां—(स्त्री.) रागादि का अभाव, विराग; —नु—(पुं.) द्वापर युग के इक्कीसवें चन्द्रवंशी राजा का नाम; —प्रकृति—(वि.) शान्त स्वभाव का; —रूप—(वि.) सरल स्वभाव का।
 शांता—(सं. स्त्री.) राजा दशरथ की कन्या जो ऋष्यशृंग ऋषि की ब्याही थी, रेणुका, शमी, आँवला, दूब।
 शांतात्मा—(सं. वि.) शान्त स्वभाव का, साधु प्रकृति का।
 शांति—(सं. स्त्री.) चित्त की स्थिरता, शमन, स्तब्धता, स्वस्थता, गम्भीरता, अमंगल दूर करने का उपचार, दुर्गा का एक नाम, षोडश मातृकाओं में से एक; —कर—(वि.) शान्ति करनेवाला; —कर्म—(पुं.) बाधा, पाप आदि के निवारण का उपाय (पूजा-पाठ आदि); —काम—(वि.) शान्ति की कामना करनेवाला; —घट—(पुं.) वह जलपूर्ण घट जो देवादि की प्रतिमा के सामने रखा जाता है; —द—(पुं.) विष्णु; (वि.) शान्ति देनेवाला; —दाता—(पुं.) दायक—(वि.) शान्ति देनेवाला; —प्रद—(वि.) शान्ति देनेवाला; —वाचन—(पुं.) सब प्रकार की बाधा को दूर करने के लिये मन्त्र-पाठ; —होम—(पुं.) अमंगल की शांति के लिये किया जानेवाला हवन।
 शांव—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण के पुत्र का नाम।
 शांवरिक—(सं. पुं.) जादूगर।
 शांवरी—(सं. स्त्री.) इन्द्रजाल।
 शांबुक, शांबुक—(सं. पुं.) घोंघा।
 शांभव—(सं. वि.) शिव-संबंधी।
 शांभवी—(सं. स्त्री.) दुर्गा देवी।
 शाकंभरी—(सं. स्त्री.) शक जाति की इष्ट देवी, भगवती दुर्गा।

शाकंभरीय—(सं. पुं.) सौमर नमक।
 शाक—(सं. पुं.) भाजी, तरकारी, साग, शक्ति, (वि.) शक जाति-संबंधी।
 शाकद्वीप—(सं. पुं.) पुराण के अनुसार सात द्वीपों में से एक द्वीप।
 शाकद्वीपीय—(सं. पुं., वि.) शाकद्वीप का रहनेवाला, ब्राह्मणों का एक भेद।
 शाकभक्ष—(सं. वि.) शाकाहारी।
 शाकट—(सं. वि.) शकट-संबंधी; (पुं.) गाड़ी का बैल, गाड़ी का बोझ।
 शाकटायन—(सं. पुं.) एक प्राचीन वैयाकरण का नाम।
 शाकटिक—(सं. वि.) देखें 'शाकट'।
 शाकल—(सं. वि.) खण्ड-संबंधी; (पुं.) खण्ड, टुकड़ा, हवन की सामग्री जिसमें जौ, तिल, घृत, मधु आदि मिला रहता है।
 शाकल्य—(सं. पुं.) एक अति प्राचीन ऋषि का नाम।
 शाकश्रेष्ठ—(सं. पुं.) बथुआ का शाक।
 शाकाद—(सं. पुं.) शाकभोजी।
 शाकान्न—(सं. पुं.) साग मिला हुआ भात।
 शाकाम्ल—(सं. पुं.) इमली।
 शाकारी—(सं. स्त्री.) प्राकृत भाषा का एक भेद।
 शाकाहार—(सं. पुं.) अन्न, फल, फूल, पत्तों आदि का भोजन।
 शाकाहारी—(सं. पुं., वि.) अन्न, फल, फूल तथा शाक खानेवाला।
 शाकिनी—(सं. स्त्री.) एक पिशाची जो दुर्गा की अनुचरी मानी जाती है, डाइन, चुडैल।
 शाकुंतल—(सं. पुं.) शकुन्तला का पुत्र, भरत।
 शाकुन—(सं. पुं.) शकुन द्वारा मनुष्य का शुभाशुभ वनानेवाला।
 शाकुनिक—(सं. पुं.) व्याध, वहेलिया।
 शाकेशु—(सं. पुं.) गन्ने का एक भेद।
 शाकेश्वर—(सं. पुं.) वह राजा जिसके नाम पर संवत् चले।
 शाकील—(सं. पुं.) एक प्रकार की लता।
 शाककर—(सं. पुं.) वृषभ, बैल।
 शाकित—(सं. पुं.) शक्ति का उपासक, वह जो दुर्गा, काली, तारा आदि शक्तियों की उपासना करता हो; (वि.) शक्ति-संबंधी।
 शाक्य—(सं. पुं.) बुद्धदेव, एक प्राचीन क्षत्रिय जाति का नाम; —पुंगव, —मुनि, —सिंह—(पुं.) बुद्धदेव।
 शाक—(सं. पुं.) ज्येष्ठा नक्षत्र; (वि.)

शक या इन्द्र-संबंधी।
 शाकवर—(सं. पुं.) इन्द्र का वज्र, बैल, साँड़।
 शाक—(सं. पुं.) कार्तिकेय, कृतिका का पुत्र; (फा. स्त्री.) शाखा, डाल।
 शाखींग—(सं. पुं.) शरीर का अवयव, हाथ, पैर।
 शाखा—(सं. स्त्री.) डाल, टहनी, शरीर का अवयव, हाथ, पैर, वाहु, अँगुली, किसी वस्तु आदि का अंग, या भाग भेद, विभाग, किसी शास्त्र या विद्या के अन्तर्गत उसका कोई भेद; —कंट—(पुं.) थूहर; —कंटक—(पुं.) थूहर; —चक्रमण—(पुं.) एक डाल से दूसरी डाल पर कूदकर जाना; —चंद्रन्याय—(पुं.) वह कहावत जो ऐसे विषय में कही जाती है जो सत्य मान लिया जाता है, पर वस्तुतः सत्य नहीं होता; —नगर—(पुं.) किसी नगर का प्रान्त-भाग, उपनगर; —भृग—(पुं.) बंदर, गिलहरी; —शिफा—(स्त्री.) वह शाखा जो नीचे की ओर झुककर भूमि में जड़ पकड़ ले।
 शाखाग्र—(सं. पुं.) शाखा का अगला भाग, अँगुली।
 शाखाम्ला—(सं. स्त्री.) इमली का पेड़।
 शाखास्थि—(सं. स्त्री.) हाथ की हड्डी।
 शाखी—(सं. पुं.) वेद की किसी शाखा का अनुयायी।
 शाखीय—(सं. वि.) शाखा-संबंधी।
 शाखोच्चार—(सं. पुं.) विवाह के समय वर-कन्या की वंशावली का वर्णन।
 शाखोट—(सं. पुं.) सिहोर का वृक्ष।
 शागिर्द—(फा. पुं.) शिष्य, चेला।
 शागिर्दी—(फा. स्त्री.) शिष्यता, चेलाई।
 शाट, शाटक—(सं. पुं.) पट, वस्त्र, कपड़े का टुकड़ा।
 शाटिका, शाटी—(सं. स्त्री.) धोती, साड़ी।
 शाठ्य—(सं. पुं.) शठता, दुष्टता।
 शाड्वल—(सं. पुं.) देखें 'शाद्वल'।
 शाण—(सं. पुं.) सन के रेशे का बना हुआ कपड़ा, हथियार पैना करने का पत्थर, सान।
 शाणित—(सं. वि.) सान पर रखा हुआ, जिसकी धार तेज की गई हो।
 शातकुंभ—(सं. पुं.) घटूरे का पौधा, सुवर्ण, सोना।
 शातन—(सं. पुं.) काटना, चोखा करना, नष्ट करना।
 शातपत्र—(सं. वि.) शतपत्र के तुल्य, कमल के समान।

शातपत्रक—(सं. पुं.) चन्द्रिका, चंद्रनी ।
 शातवाहन—(सं. पुं.) देखें 'शालिवाहन' ।
 शातोदर—(सं. वि.) क्षीण, दुबला-पतला ।
 शात्रव—(सं. पुं.) शत्रुता ।
 शाब्द—(सं. पुं.) कर्म, कीचड़, दूब ।
 शाब्दल—(सं. पुं.) दूब, हरी घास; (वि.)
 हरा-भरा (मैदान) ।
 शादी—(फा. स्त्री.) विवाह ।
 शान—(फा. स्त्री.) वैभव, गौरव ।
 शानदार—(फा. वि.) वैभवशाली ।
 शानशोकत—(अ. स्त्री.) वैभव, तड़क-भड़क
 शानेश्चर—(सं. वि.) शानि ग्रह-संबंधी ।
 शाप—(सं. पुं.) किसी का अनिष्ट बनाते हुए
 बुरी कामना व्यक्त करना, आक्रोश,
 धिक्कार, कामना, फटकार; -प्रस्त-
 (सं. वि.) जो शाप से संतप्त हो;
 -मुक्त—(वि.) -जिसके ऊपर से शाप
 का प्रभाव हट गया हो ।
 शापांबु—(सं. पुं.) वह जल जिसको हाथ
 में लेकर शाप दिया जाय ।
 शापास्त्र—(सं. पुं.) वह जिसका अस्त्र
 शाप देना ही हो ।
 शापित—(सं. वि.) जिसको शाप दिया
 गया हो ।
 शापोद्धार—(सं. पुं.) शाप के प्रभाव से
 छुटकारा ।
 शाफरिक्—(सं. पुं.) मछुआ, धीवर ।
 शावर—(सं. पुं.) शिवकृत तन्त्रविशेष,
 पाप, अविकार, दुःख, बुराई; -भाष्य-
 (पुं) शवरस्वामी-कृत भाष्य ।
 शावरी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की
 प्राकृत भाषा ।
 शावल—(सं. पुं.) शंकर ।
 शावाश—(फा. अव्य.) प्रशंसासूचक शब्द ।
 शावाशी—(फा. स्त्री.) प्रशंसा, सराहना ।
 शाब्द—(सं. वि.) शब्द-सम्बन्धी ।
 शाब्दिक—(सं. पुं.) शब्दशास्त्र का ज्ञाता,
 वैयाकरण; (वि.) शब्द-संबंधी ।
 शाब्दी—(सं. वि.) शब्द-सम्बन्धी; (स्त्री.)
 सरस्वती; -व्यंजना—(स्त्री.) साहित्य
 में वह व्यंजना जो शब्द विघेष के
 प्रयोग पर निर्भर हो ।
 शाम—(फा. स्त्री.) संध्या ।
 शामकरण—(हि. पुं.) वह घोड़ा-जिसके
 कान काले हों ।
 शामत—(अ. स्त्री.) दुर्दशा ।
 शामनी—(सं. स्त्री.) दक्षिण दिशा ।
 शामियाना—(फा. पुं.) एक प्रकार का
 बड़ा तंबू, चंदवा ।
 शामिल—(फा. वि.) नंगुक्त, नग्नमित्त ।

शास्त्री—(हि. स्त्री.) लोहे, पीतल आदि का
 छल्ला जो छड़ी, छाने आदि के छोर पर
 लगाया जाता है ।
 शासूत्र—(सं. पुं.) ऊनी वस्त्र ।
 शायक—(सं. पुं.) बाण, तीर, तलवार ।
 शायद—(फा. अव्य.) कदाचित् ।
 शायर—(अ. पुं.) कवि ।
 शायरी—(अ. स्त्री.) कविता ।
 शायित—(सं. वि.) पतित, लिटाया हुआ ।
 शक्षी—(सं. वि.) शयनकारी, सोनेवाला ।
 शारंग—(सं. पुं.) चातक, हरिण, हाथी,
 मोर; (वि.) चितकवरा; -रु—(पुं.)
 एक प्रकार का पक्षी; -अद्भुत—(पुं.)
 विष्णु, श्रीकृष्ण; -पाणि—(पुं.) कृष्ण,
 राम; -गानि—(हि. पुं.) शारंगपाणि;
 -भृत्—(पुं.) विष्णु, कृष्ण ।
 शारंगी—(सं. स्त्री.) शारंगी नाम का
 बाजा ।
 शार—(सं. वि.) चितकवरा, पीला ।
 शारद—(सं. पुं.) सफेद कमल, मौलसिरी
 का वृक्ष, बर्ष, साल, मेघ, बादल;
 (वि.) शरत्-काल का, नूतन, नया ।
 शारदा—(सं. स्त्री.) सरस्वती ।
 शारदा—(सं. स्त्री.) सरस्वती, दुर्गा ।
 शारदिक—(सं. पुं.) शरद-ऋतु में होनेवाला
 ज्वर, रोग आदि ।
 शारदी—(सं. स्त्री.) जलपीपल, शरद्
 पूर्णिमा; (वि.) शरद् ऋतु-संबंधी ।
 शारदीय—(सं. वि.) शरत्-काल का;
 -महापूजा—(स्त्री.) शरत्-काल के
 नवरात्र में होनेवाली दुर्गापूजा ।
 शारि—(सं. पुं.) पासा खेलने की गोटी ।
 शारिका—(सं. स्त्री.) मैना नामक पक्षी ।
 शारिकाकर्म—(सं. पुं.) दुर्गा का एक
 कर्म ।
 शारित—(सं. वि.) रंगविरंगा ।
 शारिभृत्—(सं. पुं.) नीमर खेलने की
 बिनात ।
 शारिकल—(सं. पुं.) चौसर या जनरंज
 खेलने की बिनात ।
 शारिवा—(सं. स्त्री.) अनन्तमूल, सालसा ।
 शारिभृत्—(सं. पुं.) जुआ खेलने की गोटी ।
 शारी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का मैना
 पक्षी, मूँज ।
 शारीर—(सं. पुं.) वृष, बैल; (वि.) शरीर
 से उत्पन्न, शरीर-संबंधी; -रु—(वि.)
 शरीर से उत्पन्न; -भाष्य—(पुं.)
 संज्ञानार्थक 'ब्रह्ममूल का भाष्य;
 -मीमांसा—(स्त्री.) वेदान्तमूल; -सूत्र-
 (पुं.) वेदान्तसूत्र; -विद्या—(पुं.) यह

शास्त्र जिसमें जीवों के उत्पन्न होने और
 शरीर-रचना का विवेचन होता है ।
 शारीरिक—(सं. वि.) शरीर-संबंधी ।
 शार्कर—(सं. वि.) शार्करा-संबंधी, चीनी
 से बना हुआ ।
 शाङ्ग—(सं. पुं.) घनुप, विष्णु का
 घनुप; -रु—(पुं.) पक्षी, चिड़िया;
 -वर—(पुं.) विष्णु, श्रीकृष्ण ।
 शाङ्गण्टा—(सं. स्त्री.) घुंघची ।
 शाङ्गयुध—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण ।
 शाङ्गी—(सं. पुं.) विष्णु, श्रीकृष्ण, घनु-
 घारी ।
 शार्दूल—(सं. पुं.) व्याघ्र, बाघ, राक्षस,
 चीते का वृक्ष, दोहे का एक भेद;
 (वि.) सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ (यौगिक
 शब्द के उत्तर पद में); -कंद—(पुं.)
 जंगली प्याज; -ललिता—(स्त्री.)
 एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में
 अठारह अक्षर होते हैं; -विनीडित-
 (पुं.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक
 चरण में उन्नीस अक्षर होते हैं ।
 शार्दरी—(सं. स्त्री.) रात्रि, रात ।
 शाल—(फा. स्त्री.) एक प्रकार की ऊनी
 चादर, दुशाला ।
 शालग्राम—(सं. पुं.) गंडकी नदी में
 मिलनेवाली एक प्रकार की पत्थर की
 बटिका जिसपर चक्र का चिह्न रहता है ।
 शालन—(सं. पुं.) साग ।
 शालपर्णी—(सं. स्त्री.) सरस्वि नामक वृक्ष ।
 शालभ—(सं. वि.) शलभ-संबंधी ।
 शालभंजिका, शालभंजी—(सं. स्त्री.)
 कठपुतली ।
 शालमकंड—(सं. पुं.) अनार का पेड़ ।
 शालरस—(सं. पुं.) राल, घूना ।
 शालसार—(सं. पुं.) हींग, राल, घूना ।
 शालांकी—(सं. पुं.) गुड़िया, कठपुतली ।
 शाला—(सं. स्त्री.) स्थान, गृह, घर,
 इन्द्रयज्ञा और उपेन्द्रयज्ञा के योग
 से बननेवाला एक प्रकार का वृत्त;
 -द्वार—(पुं.) घर का द्वार; -पति-
 (पुं.) घर का मालिक; -मुख—(पुं.)
 घर का अगला नाग; -मृग—(पुं.)
 सियार, कुत्ता; -वृक—(पुं.) बंदर,
 कुत्ता, सियार ।
 शालावध—(सं. पुं.) वह चिकित्सक जो
 आँसू, नाक, कान, मुख आदि के
 रोगों की चिकित्सा करता हो ।
 शालानुरीय—(सं. पुं.) पाणिनि मुनि का
 एक नाम ।
 शालार—(सं. पुं.) सोपान, सीढ़ी ।

शालि-(सं. पुं.) धान्य, धान, काला जीरा, पक्षी, एक यज्ञ का नाम;
 -का-(स्त्री.) देखें 'शारिका', मैना;
 -गोप-(पुं.) धान के खेत की रख-वाली करनेवाला; -धान-(हिं. पुं.) वासमती चावल; -पर्णी-(पुं.) सरिवन नामक वृक्ष; -वाह-(पुं.) अन्न ढोनेवाला बैल; -वाहन-(पुं.) शक जाति का एक प्रसिद्ध राजा जिसने शक संवत् चलाया था; -होत्र-(पुं.) घोड़ा, नकुल का बनाया हुआ पशुओं की चिकित्सा का शास्त्र; -होत्री-(पुं.) पशुओं की चिकित्सा करनेवाला वैद्य।
 शालिनी-(सं. स्त्री.) ग्यारह अक्षरों का एक वृत्त; -करण-(पुं.) तिरस्कार।
 शाली-(सं. स्त्री.) काला जीरा, मेथी।
 शालीन-(सं. वि.) सदृश, समान, विनीत, लज्जायुक्त, अच्छे आचार-विचार का;
 -ता-(स्त्री.) विनय, नम्रता;
 -स्व-(पुं.) शालीन होने का भाव या धर्म, शिष्टता।
 शालीना-(सं. स्त्री.) सौंफ का पौधा।
 शालीय-(सं. वि.) शाल वृक्ष-सम्बन्धी।
 शालूक-(सं. पुं.) कमल की जड़, मसीड़।
 शालूर-(सं. पुं.) भेक, मेढक।
 शालीय-(सं. पुं.) मधुरिका, सौंफ।
 शाल्मल-(सं. पुं.) सेमल का वृक्ष।
 शाल्मलि-(सं. पुं, स्त्री.) सेमल का वृक्ष, पुराण के अनुसार एक द्वीप का नाम।
 शाल्व-(सं. पुं.) प्राचीन मेरु राज्य के अधिपति का नाम।
 शाल्वण-(सं. पुं.) फोड़ा पकाने का लेप या मरहम।
 शाव, शावक-(सं. पुं.) शिशु, बच्चा, पशु आदि का बच्चा।
 शावता-(सं. स्त्री.) बचपन।
 शावर-(सं. पुं.) मीमांसा-भाष्य का नाम।
 शावरी-(सं. स्त्री.) केवाँच।
 शाशक-(गं. वि.) शशक-सम्बन्धी, खरहे का।
 शाश्वत-(सं. पुं.) नित्य, स्थायी।
 शाश्वती-(सं. स्त्री.) पृथ्वी।
 शासक-(सं. पुं.) राजा, शासन करनेवाला, अधिकारी।
 शासन-(सं. पुं.) सरकार द्वारा की जानेवाली प्रचलित राज्य-व्यवस्था, आज्ञा, आदेश, शास्त्र, लिखित प्रतिज्ञा, दण्ड, इन्द्रियों का निग्रह; -घर-(पुं.) राजदूत, शासक; -पत्र-(पुं.) वह शिला

या ताम्रपत्र जिस पर किसी राजा की आज्ञा लिखी या खोदी हुई हो;
 -वाहक-(पुं.) आज्ञावाहक, राजदूत;
 -शिल्ल-(स्त्री.) वह शिला जिस पर राजा की कोई आज्ञा खोदी गई हो;
 -हार-(पुं.) राजदूत; -हारक-(पुं.) देखें 'शासनहार'।
 शासनी-(सं. स्त्री.) धर्म का उपदेश करनेवाली स्त्री।
 शासनीय-(सं. वि.) शासन करने योग्य।
 शासित-(सं. वि.) शासन किया हुआ, दण्ड दिया हुआ।
 शासिता, शास्ता-(सं. पुं.) शासन करनेवाला, राजा।
 शास्त्र-(सं. पुं.) हिन्दुओं के ऋषि-मुनियों के बनाये हुए प्राचीन ग्रंथ, (धर्म, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, कला आदि से संबद्ध) प्रगाढ़ और व्यवस्थित विवेचन के ग्रंथ; -कार-(पुं.) शास्त्र बनानेवाला;
 -चक्षु-(पुं.) व्याकरण, ज्ञानी, पण्डित;
 -ज्ञ-(पुं.) शास्त्र को जाननेवाला; -दर्शी-(पुं. वि.) शास्त्र का विद्वान्; -वक्ता-(वि.) शास्त्र का उपदेश देनेवाला;
 -वत्-(अव्य.) शास्त्र के अनुसार।
 शास्त्री-(सं. पुं.) एक उपाधि जो इस नाम की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर विश्वविद्यालय से दी जाती है, शास्त्रज्ञ, पण्डित।
 शास्त्रीय-(सं. वि.) शास्त्र-सम्बन्धी।
 शास्त्रोक्त-(सं. वि.) शास्त्रों में कहा हुआ।
 शाहंशाह-(फा. पुं.) देखें 'शहंशाह'।
 शाह-(फा. पुं.) राजा, सम्राट्।
 शाहजादा-(फा. पुं.) राजकुमार।
 शाही-(फा. वि.) शाह का, शाह-संबंधी।
 शिकित-(सं. वि.) आघ्रात, सूँघा हुआ।
 शिघाण-(सं. पुं.) काँच का पात्र, नाक के भीतर का मल।
 शिघाणक-(सं. पुं.) कफ।
 शिघित-(सं. वि.) सूँघा हुआ।
 शिजित-(सं. वि.) वजता हुआ, झनकता हुआ।
 शिजिनी-(सं. स्त्री.) धनुष की डोरी, चिल्ला, घुँघरू।
 शिशपा-(सं. स्त्री.) शीशम का वृक्ष, अशोक वृक्ष।
 शिशुमार-(सं. पुं.) सूँस-नामक जल-जन्तु।
 शिहान-(सं. पुं.) काँच का पात्र।
 शि-(सं. पुं.) सौभाग्य, शान्ति, महादेव।
 शिकंजा-(फा. पुं.) कसने, निचोड़ने आदि के काम आनेवाला यंत्र।

शिकन-(फा. स्त्री.) सिकुड़न।
 शिकमी-(फा. पुं.) दूसरे का खेत लगान पर जोतनेवाला किसान।
 शिकायत-(अ. स्त्री.) निंदा, चुगली।
 शिकार-(फा. पुं.) आखेट, मृगया।
 शिकारी-(फा. वि.) शिकार-संबंधी, शिकार के योग्य; (पुं.) शिकार करनेवाला।
 शिक्य-(सं. पुं.) छत में लटकाने का छीका, सिकहर।
 शिक्षक-(सं. पुं.) शिक्षा देनेवाला, गुरु।
 शिक्षण-(सं. पुं.) शिक्षा, पढ़ाने का काम।
 शिक्षणीय-(सं. वि.) शिक्षा के उपयुक्त, सिखाने लायक।
 शिक्षा-(सं. स्त्री.) पढ़ने या पढ़ाने की क्रिया, छः वेदांगों में से एक जिसमें वेदों के वर्ण, मात्रा आदि का निरूपण है, ज्ञान या विद्या की प्राप्ति, दक्षता, निपुणता, उपदेश, दण्ड, शासन;
 -कर-(पुं.) सिखलानेवाला; -गुरु-(पुं.) दीक्षा-गुरु, विद्या पढ़ानेवाला गुरु; -ग्राहक-(पुं.) विद्यार्थी; -दंड-(पुं.) किसी बुरी चाल को छुड़ाने के लिये दिया जानेवाला दंड; -पद-(पुं.) उपदेश; -परिषद्-(स्त्री.) शिक्षा का प्रबन्ध करनेवाली सभा; -प्रद-(वि.) शिक्षा देनेवाला; -विभाग-(पुं.) वह राजकीय विभाग जिसके द्वारा सार्वजनिक शिक्षा का प्रबन्ध होता है; -हीन-(वि.) अशिक्षित।
 शिक्षाक्षेप-(सं. पुं.) काव्य में वह अलंकार जिसमें शिक्षा द्वारा कोई कार्यरोंका जाता है।
 शिक्षित-(सं. वि.) जिसने शिक्षा पाई हो, विद्वान्, पंडित।
 शिक्षितव्य-(सं. वि.) शिक्षा के योग्य।
 शिक्षिताक्षर-(सं. पुं.) शिक्षक, छात्र।
 शिखंड-(सं. पुं.) मोर की पूँछ, शिखा, चोटी, काकपक्ष, काकुल।
 शिखंडिक-(सं. पुं.) कुक्कुट, मुर्गा, एक प्रकार का मानिक।
 शिखंडिनी-(सं. स्त्री.) मयूरी, मोरनी, द्रुपदराज की कन्या।
 शिखंडी-(सं. पुं.) मयूर, मोर, कुक्कुट, मुर्गा, त्राण, तीर, घुँघची, विष्णु, मोर की पूँछ, शिव, श्रीकृष्ण, वालों की चोटी, द्रुपद का पुत्र जो महाभारत में पांडवों की ओर से लड़ा था।
 शिखर-(सं. पुं.) सिरा, ऊपरी भाग, अग्र-भाग, पहाड़ की चोटी, लवंग, एक तान्त्रिक विद्या, एक अस्त्र का नाम,

कंगूरा, मंडप, गुम्बद, काँल, एक प्रकार का लाल रत्न; -वासिनी-(स्त्री.) शिखर पर बसनेवाली, दुर्गा। शिखरन-(हिं. पुं.) दही और चीनी से बनाया हुआ एक पेय जिसमें केशर, इलायची, मेवे आदि डाले जाते हैं। शिखरिणी-(सं. स्त्री.) शिखरन, स्त्रियों में श्रेष्ठ, ब्रह्मे का फूल, छाती पर की रोमावली, किशमिश, सत्रह अक्षरों का एक वर्णवृत्त।

शिखरी-(सं. पुं.) वृक्ष, पहाड़ी दुर्ग, कोट, एक प्रकार का मृग, वह गदा जो विश्वामित्र ने रामचन्द्र को दी थी। शिखा-(सं. स्त्री.) आग की लपट, चोटी, चुटिया, शाखा, डाली, पक्षियों के सिर पर की कलंगी, दीये की टेम, नोक, सिरा, ऊपर को उमड़ा हुआ भाग, स्तन का अग्र-भाग, पेड़ की जड़, तुलसी, प्रकाश की किरण, एक वर्णवृत्त का नाम; -कंद-(पुं.) शलजम; -चल-(पुं.) मयूर, मोर; -तह-(पुं.) दीवट; -धर-(पुं.) मोर; -मणि-(पुं.) श्रेष्ठ व्यक्ति; -मूल-(पुं.) वह कन्द जिसके ऊपर पत्तियों का गुच्छा हो; -ल-(पुं.) मयूर, मोर; -लु-(पुं.) मयूर, शिखा; -वत्, -वान्-(वि.) शिखायुक्त; (पुं.) अग्नि, आग, मोर; -वर-(पुं.) कटहल का वृक्ष; -बल-(पुं.) मयूर, मोर; -वृक्ष-(पुं.) दीप-वृक्ष, दीवट; -वृद्धि-(स्त्री.) सूद-वर-सूद।

शिखाभरण-(सं. पुं.) शिरोभूषण। शिखिन्-(सं. पुं.) मयूर, मोर, कामदेव, अग्नि, तीन की संख्या; -कंठ-(पुं.) तुल्य, तृतीया; (वि.) मोर के कंठ के समान; -कंद-(पुं.) कुंडल; -ग्रीव-(पुं.) एक प्रकार का नीला पत्थर; -ध्वज-(पुं.) कार्तिकेय, धूम्र, धुआँ; -वाहन-(वि.) कार्तिकेय। शिखिनी-(सं. स्त्री.) मोरनी, मुर्गी, जटाधारी का पीवा।

शिखी-(सं. पुं.) मोर, अग्नि, इन्द्र, बगला पक्षी, एक नाग का नाम, एक प्रकार का विप, केवाँच, पर्वत, मेयो, सतावर, घोड़ा, केतु ग्रह, वृक्ष, कुक्कुट, मुर्गा, वाण, तीर, साँड़, पुच्छल तारा, तीन की संख्या।

शित-(सं. वि.) कृश, दुर्बल, नुकीला, चोखा; -कर-(पुं.) कपूर; -कर्णा-(स्त्री.) वासक, अड़सा; -च्छना-

(स्त्री.) सौँफ; -ता-(स्त्री.) तीक्ष्णता, धार; -पर्ण-(पुं.) मुस्तक, मोया; -शिव-(पुं.) सेवा नमक; -शूक-(पुं.) जौ, गेहूँ।

शिताफल-(सं. पुं.) सीताफल, शरीफा। शितावर-(सं. पुं.) देखें 'सतावर'। शिति-(सं. वि.) शुक्ल, सफेद, काला; (पुं.) भोजपत्र का वृक्ष; -कंठ-(पुं.) शिव, महादेव, मोर, चातक, पपीहा; -कुंभ-(पुं.) कनेर का वृक्ष; -प्रभ-(पुं.) विष्णु; -रत्न-(पुं.) नीलम; -वासा-(पुं.) नीलाम्बर, बलदेव।

शियिल-(सं. वि.) ढीला, श्रान्त, थका हुआ, मन्द, सुस्त, धीमा, आलस्य-युक्त, अदृढ़, अस्पष्ट; -ता-(स्त्री.) ढिलाई, थकावट, आलस्य, शक्ति की कमी, वाक्यों में अर्थ-संबंध न होना। शिथिलाई-(हिं. स्त्री.) शिथिलता। शिथिलाना-(हिं. क्रि. अ.) थकना। शिथिलित-(सं. वि.) जो शिथिल हो गया हो।

शिथिलीकरण-(सं. पुं.) शिथिल करना। शिथिलीभूत-(सं. वि.) शिथिल पड़ा हुआ।

शिनाख्त-(फा. स्त्री.) पहचान, परख। शिपि-(सं. पुं.) किरण; (स्त्री.) चमड़ा, खाल।

शिप्रा-(सं. स्त्री.) उज्जैन के पास बहनेवाली एक नदी का नाम।

शिफर-(हिं. पुं.) ढाल। शिफा-(सं. स्त्री.) कोड़े की फटकार या मार।

शिफारह-(सं. पुं.) वरगद का वृक्ष। शिमी-(सं. स्त्री.) शिवी, सेम।

शिष्या-(फा. पुं.) एक मुसलमान संप्रदाय या उसका अनुयायी।

शिरःकंप-(सं. पुं.) सिर का कांपना। शिरःखंड-(सं. पुं.) माथे की हड्डी।

शिरःशूल-(सं. पुं.) सिर की पीड़ा। शिर-(सं. पुं.) मुस्तक, माथा, सिर,

खोपड़ी, शिखर, सब से ऊँचा भाग, प्रवान, अगुआ, चोटी, सिरा; -त्राण-(हिं. पुं.) देखें 'शिरस्त्राण'; -नैत-(हिं. पुं.) गढ़वाल के आसपास का एक प्रदेश; -पंच-(हिं. पुं.) देखें 'शिरपंच'; -फूल-(हिं. पुं.) स्त्रियों का सिर पर पहनने का एक आमभूषण; -मीर-(हिं. पुं.) शिरो-

भूषण, मुकुट, प्रवान या श्रेष्ठ व्यक्ति।

शिरासिज, शिरसिह-(सं. पुं.) बाल, केश। शिदस्क-(सं. पुं.) पगड़ी।

शिरस्त्र, शिरस्त्राण-(सं. पुं.) युद्ध के समय सिर पर पहनने की लोहे की टोपी।

शिरश्चंद्र-(सं. पुं.) शंकर, बंभु।

शिरा-(सं. स्त्री.) शरीर की रविर-वाहिनी नाड़ी, नस, जल की धारा या सोता; -फल-(पुं.) नारियल, अंजीर; -मूल-(पुं.) नाभि, ढाँड़ी; -हर्ष-(पुं.) नसों का झनझनाना।

शिरीष-(सं. पुं.) सिरिस का पेड़।

शिरोगृह-(सं. पुं.) अट्टालिका, का सब से ऊपर का कमरा या कोठा।

शिरोज-(सं. पुं.) केश, बाल।

शिरोधरा-(सं. स्त्री.) गरदन, ग्रीवा।

शिरोधाम-(सं. पुं.) चारपाई का सिर-हाना।

शिरोधार्य-(सं. वि.) आदरपूर्वक मानने योग्य, सिर पर धरने योग्य।

शिरोधि-(सं. स्त्री.) गरदन।

शिरोभाग-(सं. पुं.) अग्रभाग, मुस्तक का भाग।

शिरोभूषण-(सं. पुं.) सिर पर पहनने का गहना, मुकुट, चूड़ामणि।

शिरोमणि-(सं. पुं.) चूड़ामणि, शिरो-रत्न, श्रेष्ठ व्यक्ति।

शिरोमाली-(हिं. पुं.) शिव, महादेव।

शिरोमौलि-(सं. पुं.) सिर का रत्न।

शिरोरुजा-(सं. स्त्री.) सिर की वेदना।

शिरोरुह-(सं. पुं.) सिर के केश या बाल

शिरोवेष्टन-(सं. पुं.) पगड़ी, मुरैठा।

शिल-(हिं. पुं.) उँछ, शिला (पत्थर)।

शिला-(सं. स्त्री.) पापाण, पत्थर,

पत्थर का बड़ा टुकड़ा, चट्टान, मैन-

सिल, कपूर, शिलाजीत, गेरू, गोरो-

चन, उँछ वृत्ति, हरीतकी, हरे;

-कुसुम-(पुं.) शिलाजीत; -गृह-

(पुं.) पत्थर का बना हुआ घर;

-चक्र-(पुं.) शालग्राम की मूर्ति;

-ज, -जतु-(पुं.), -जीत-(हिं. स्त्री.)

काले रंग की एक प्रसिद्ध औषध जो

शिला का रस है; -धातु-(स्त्री.)

एक प्रकार का गेरू, सड़िया मिट्टी;

-निचय-(पुं.) पत्थर के खंडों का

ढेर; -निपात-(पुं.) शिलाजीत;

-नीट-(पुं.) गरुड़; -न्यास-(स्त्री.)

किसी नवन की नींव देने का कार्य;

-पद-(पुं.) पत्थर की चट्टान, मगाना

पीसने की मिन; -पुष्प-प्रसून-(पुं.)

शरीला नामक गन्ध-द्रव्य; -वंश-(पुं.)

पत्थर के टुकड़ों का बना हुआ प्राचीर;
-भेद- (पुं.) पत्थर तोड़ने की
छेनी; -मय- (वि.) पत्थर का बना
हुआ; -मल- (पुं.) शिलाजीत;
-रस- (पुं.) एक प्रकार का लोवान
की तरह का सुगन्धित गोंद; -लेख-
(पुं.) पत्थर पर लिखा या खुदा हुआ
कोई प्राचीन लेख; -वृष्टि- (स्त्री.)
आकाश से ओले या पत्थर गिरना;
-वेश्म- (पुं.) पत्थर का बना हुआ
मकान; -शस्त्र- (पुं.) पत्थर का बना
हुआ अस्त्र; -स्तंभ- (पुं.) पत्थर
का खंभा; -हरि- (पुं.) शालग्राम
की मूर्ति ।

शिलादित्य- (सं. पुं.) मालव देश
के प्राचीन राजा हर्षवर्धन ।

शिलास्थि- (सं. स्त्री.) गरदन की वह
हड्डी जिस पर कपाल टिका होता है ।

शिलि- (सं. पुं.) भोजपत्र; (स्त्री.)
दरवाजे के नीचे की लकड़ी, चौखट ।

शिलींश्र- (सं. पुं.) केले का फूल ।

शिलींश्रक- (सं. पुं.) कुकुरमुत्ता ।

शिली- (सं. स्त्री.) चौखट के नीचे की
लकड़ी, डेहरी, भाला, बाण; -पद-
(पुं.) फीलपाँव नामक रोग; -पृष्ठ-
(पुं.) तलवार; -मुख- (पुं.) भ्रमर,
भौरा, युद्ध, लड़ाई ।

शिल्ये- (सं. पुं.) शिलाजीत; (वि.)
शिला-संबंधी ।

शिल्प- (सं. पुं.) हाथ की कारीगरी
से वस्तुएँ बनाना, हस्तकौशल, कला-
संबंधी व्यवसाय; -कला- (स्त्री.) हस्त-
कौशल; -कार- (पुं.) शिल्पी; -कारी-
(पुं.) वह जो शिल्प का कार्य करता हो;

-गृह- (पुं.) शिल्पशाला, वह स्थान
जहाँ बहुत से शिल्पी मिलकर चीजें
बनाते हों; -जीवी- (पुं.) शिल्पी;

-प्रजापति- (पुं.) विश्वकर्मा; -विद्या-
(स्त्री.) शिल्प-संबंधी विद्या; -शाला-
(स्त्री.) शिल्पगृह; -शास्त्र- (पुं.) वह

शास्त्र जिसमें हाथ से विविध वस्तुएँ
बनाने का विवेचन होता है ।

शिल्पिक, शिल्पी- (सं. पुं.) शिल्पकार,
राज, थवई ।

शिवंकर- (सं. वि.) कल्याण करनेवाला ।

शिव- (सं. पुं.) महादेव, ईश्वर, महेश्वर,
मंगल, मुख, कल्याण, जल, पानी, सेंधा
नमक, फिटकरी, सोहागा, चाँदी,
लोहा, मिचं, मोक्ष, पारा, वेद, वसु,

ग्यारह मात्राओं का एक छन्द;

-क- (पुं.) काँटा, खँटा; -कर्णी-

(स्त्री.) कार्तिकेय की एक मातृका
का नाम; -काँता- (स्त्री.) दुर्गा;

-कारिणी- (स्त्री.) शिवा, दुर्गा; (वि.
स्त्री.) मंगल करनेवाली; -कारी- (वि.)

कल्याण करनेवाला; -किंकर- (पुं.)
शिव का गण या दूत; -कीर्तन- (पुं.)

शिव का कीर्तन करनेवाला, शैव;
-क्षेत्र- (पुं.) कैलास; -गण- (पुं.)

शिव का अनुचर; -ता- (स्त्री.) शिव
का पद, भाव या धर्म, मोक्ष; -तेज-

(पुं.) पारद, पारा; -दत्त- (पुं.)
सुदर्शन चक्र; -दूती- (स्त्री.) दुर्गा;

-द्रुम- (पुं.) बेल का पेड़; -द्विष्टा-
(स्त्री.) केतकी, केवड़ा; -धातु-

(स्त्री.) पारद, पारा; -नंदन- (पुं.)
गणेशजी; -निर्माल्य- (पुं.) शिव को

अर्पित की हुई वस्तु, अग्राह्य या त्याज्य
वस्तु; -नाथ- (पुं.) महादेव; -पुराण-

(पुं.) अठारह पुराणों में से एक; -पुरी-
(स्त्री.) काशी; -प्रिया- (स्त्री.)

दुर्गा; -बीज- (पुं.) पारद, पारा;
-भक्त- (पुं.) शिव का भक्त, शैव;

-भक्ति- (स्त्री.) शिव की भक्ति;
-भागवत- (पुं.) शिव-पुराण; -मय-

(वि.) शिव के समान; -मल्ली-
(स्त्री.) मौलसिरी; -योषित्- (स्त्री.)

शिव की पत्नी, दुर्गा; -रात्रि-
(स्त्री.) फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी;

-रानी- (हिं. स्त्री.) पार्वती; -लिंग-
(पुं.) महादेवजी का लिंग या पिंडी

जिसका पूजन होता है; -लिंगी-
(स्त्री.) एक प्रकार की प्रसिद्ध लता;

-लोक- (पुं.) कैलास; -वल्लभा-
(स्त्री.) पार्वती; -वाहन- (पुं.) वृषभ,

बैल; -शक्ति- (स्त्री.) पार्वती;
-सायुज्य- (पुं.) वह मोक्ष जिसमें

मनुष्य शिव-रूप हो जाता है; -सुंदरी-
(स्त्री.) दुर्गा ।

शिवा- (सं. स्त्री.) दुर्गा, पार्वती, मुक्ति,
मोक्ष, अनन्तमूल, मेथी, दूब, गोरोचन,
शमी वृक्ष, श्रृगाली, सियारिन ।

शिवाक्ष- (सं. पुं.) रुद्राक्ष ।

शिवानी- (सं. स्त्री.) दुर्गा, जयन्ती वृक्ष ।

शिवास्त- (सं. पुं.) सियार के बोलने
का शब्द ।

शिवालय- (सं. पुं.) वह मन्दिर जिसमें
शिव की मूर्ति या लिंग स्थापित हो, कोई-
देव-मन्दिर ।

शिवाला- (हिं. पुं.) शिवालय, शिव का

मन्दिर ।

शिवालु- (सं. पुं.) श्रृगाल, सियार ।

शिवाह्लाद- (सं. पुं.) शिव का आनन्द ।

शिवाह्वय- (सं. पुं.) पारा, सफेद मदार ।

शिबि- (सं. पुं.) भृङ्गपत्र का वृक्ष, राजा
उशीनर के पुत्र जो बड़े धर्मात्मा और
दानी थे ।

शिविका- (सं. स्त्री.) पालकी, डोली ।

शिविर- (सं. पुं.) डेरा, गढ़, पड़ाव,
छावनी, तंबू ।

शिशिर- (सं. पुं.) शीत-काल, हिम, ओस,
शीत; (वि.) शीतल, ठंडा; -कर- (पुं.)

चन्द्रमा; -किरण- (पुं.) चन्द्रमा;
-ता- (स्त्री.) शीत का प्रकोप;

-दीधिति- (पुं.) चन्द्रमा; -मयूख-
(पुं.) चंद्रमा ।

शिशिरांशु- (सं. पुं.) चन्द्रमा ।

शिशु- (सं. पुं.) बालक, छोटा लड़का,
(विशेषतः आठ वर्ष तक का बालक);

-काल- (पुं.) वचपन; -ता- (स्त्री.)
वचपन; -ताई- (हिं. स्त्री.) शिशुता;

-त्व- (पुं.) शैशव, वचपन; -ताण-
(पुं.) एक राक्षस का नाम; -पन-

(हिं. पुं.) बालकपन; -पाल- (पुं.)
चेदि-वंश का एक राजा जिसको श्री-
कृष्ण ने मारा था; -भाव- (पुं.)

लड़कपन; -मार- (पुं.) नक्षत्रमंडल
विशेष, सूँस नामक जलजन्तु, विष्णु,
कृष्ण; -०चक्र- (पुं.) सौर-जगत्, सब

ग्रहों-सहित सूर्य; -०मुखी- (स्त्री.)
कार्तिकेय की एक मातृका का नाम;

-वाहक- (पुं.) जंगली बकरा ।

शिशन्- (सं. पुं.) उपस्थ, पुरुष का लिंग ।

शिष- (हिं. स्त्री.) शिखा, चोटी, सीख;
(पुं.) शिष्य ।

शिषरी- (हिं. वि.) शिखरवाला ।

शिष्ट- (सं. वि.) शान्त, सुशील, अच्छे
स्वभाव का, विनीत, शिक्षित, सज्जन,
बुद्धिमान, प्रधान, प्रसिद्ध; (पुं.) मन्त्री,
सभासद; -ता- (स्त्री.) सज्जनता,
उत्तमता, भलमनसी; -सभा- (स्त्री.)

राजसभा; -समाज- (पुं.) शिष्ट
जनों का समाज ।

शिष्टाचार- (सं. पुं.) भले आदमियों की
तरह व्यवहार, विनय, आदर, नम्रता,
सभ्य व्यवहार, (शिष्टाचार के आठ

लक्षण हैं, यथा—दान, सत्य, तपस्या,
अलोभ, विद्या, इज्या, पूजा और दम ।)

शिष्टि- (सं. स्त्री.) आज्ञा, शासन, दण्ड ।

शिष्य- (सं. पुं.) शिक्षा या उपदेश देने

के योग्य व्यक्ति, विद्यार्थी, चेला; -ता- (स्त्री.) शिष्य होने का भाव या धर्म; -त्व- (पुं.) शिष्यता ।
 शिष्या- (सं. स्त्री.) एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में सात गुरु-अक्षर होते हैं, (इसका दूसरा नाम शीर्ष-रूपक है ।)
 शीकर- (सं. पुं.) तुपार, शीत, जाड़ा, पानी की बूँद, वर्षा की छोटी-छोटी बूँद ।
 शीघ्र- (सं. अव्य.) तुरत, झटपट; (पुं.) वायु, हवा; -कारी- (वि.) शीघ्रता से काम करनेवाला; -कोपी- (वि.) जिसको शीघ्र क्रोध आता हो; -ग- (पुं.) सूर्य, वायु, खरहा; -गामी- (वि.) शीघ्र चलनेवाला; -ता- (स्त्री.) त्वरा, जल्दी; -त्व- (पुं.) त्वरा; -पतन- (पुं.) मैथुन काल में वीर्य का शीघ्र स्खलित होना; -पाणि- (पुं.) वायु; -पुष्प- (पुं.) अगस्त्य का वृक्ष; -यान- (वि.) वेग से चलनेवाला; -चह- (वि.) शीघ्रता से ढोनेवाला; -वाही- (वि.) शीघ्र ले जानेवाला; -वेधो- (वि.) शीघ्रता से वाण चलानेवाला; -संचारी- (वि.) देखें 'शीघ्रगामी' ।
 शीत- (सं. पुं.) जाड़ा, तुपार, ओस, जाड़े की ऋतु, जाड़ा लगने से होनेवाला ज्वर, सरदी, जुकाम; (वि.) शीतल, ठंडा; -क- (वि.) दीर्घसूत्री, काम करने में विलम्ब करनेवाला; -ऋटिबंध- (पुं.) पृथ्वी के उत्तर तथा दक्षिण के भूमिखण्ड के वे कल्पित विभाग जो भूमध्य रेखा से ६६ $\frac{1}{2}$ ° से परे और उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के बीच में माने जाते हैं, (इन भागों में जाड़ा बहुत पड़ता है); -कर- (पुं.) चन्द्रमा, कपूर; -काल- (पुं.) हिम ऋतु, अगहन-पूस का महीना; -क्षार- (पुं.) शुद्ध सोहागा; -मंध- (पुं.) सफेद चन्दन; -गात्र- (पुं.) एक प्रकार का सन्निपात ज्वर; -गु- (पुं.) चन्द्रमा, कपूर; -च्छाय- (पुं.) वरगद का वृक्ष; -दीधिति- (पुं.) चन्द्रमा; -दीप्य- (पुं.) सफेद जीरा; -दूर्वा- (स्त्री.) सफेद दूब; -द्युति- (पुं.) चन्द्रमा; -पुष्प- (पुं.) छड़ीला, सिरिस; -प्रभ- (पुं.) कपूर, कपूर; -फल- (पुं.) गूलर, आमला; -भानु- (पुं.) चन्द्रमा -भीर- (वि.) ठंडक से डरनेवाला; -मयूख, -मरीचि- (पुं.) चन्द्रमा, कपूर; -मूलक- (पुं.) उशीर, नस; -रम्य- (वि.) जो शीत-काल में रमणीय हो; -रश्मि- (पुं.) चन्द्रमा,

कपूर; -वासा- (स्त्री.) यूथिका, जूही; -शैल- (पुं.) हिमालय पर्वत ।
 शीतल- (सं. वि.) ठंडा, शान्त, उद्वेग-रहित; (पुं.) ठंडक, खस, हिम, चम्पा; -चीनी- (हि. स्त्री.) देखें 'कवाव-चीनी'; -ता- (स्त्री.) ठंडापन, सरदी, जड़ता; -ताई- (हि. स्त्री.) ठंडापन ।
 शीतला- (सं. स्त्री.) वसन्त रोग, चेचक, इस रोग की अघिष्ठात्री देवी; शीतलाष्टमी- (स्त्री.) चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ।
 शीतलु- (सं. पुं.) ठंडा जल ।
 शीतांशु- (सं. पुं.) कपूर, चन्द्रमा ।
 शीता- (सं. स्त्री.) क्षीरिणी, खिरनी ।
 शीतान्नि- (सं. पुं.) हिमालय पर्वत ।
 शीतभ- (सं. पुं.) कपूर, चन्द्रमा ।
 शीतश्म- (सं. पुं.) चन्द्रकान्त मणि ।
 शीतेतर- (सं. वि.) उष्ण, गरम ।
 शीतोदक- (सं. पुं.) एक नरक का नाम ।
 शीतोष्ण- (सं. वि.) शीत और उष्ण ।
 शीत्कार- (सं. पुं.) स्त्रियों की रति-काल की ध्वनि, सी-सी करना ।
 शीकर- (सं. वि.) सुन्दर, रम्य ।
 शीभर- (सं. पुं.) शीकर, जलप्रवाह ।
 शीभ्य- (सं. पुं.) शिव, महादेव, वृषभ, बैल ।
 शीमूल- (सं. पुं.) सेमल का वृक्ष ।
 शीरा (रां)- (फा. पुं.) चाशनी, गाढ़ा पेय ।
 शीर्ष- (सं. वि.) दुबला-पतला, टूटा-फूटा, मुख्वाया हुआ, गिरा हुआ, फटा-पुराना, सिकुड़ा हुआ; -त्व- (पुं.) कृशता; -वल- (पुं.) नीम का पेड़ ।
 शीति- (सं. स्त्री.) तोड़ने या फोड़ने की क्रिया ।
 शीष- (सं. पुं.) मस्तक, माथा, कपाल, सिर, अग्र-भाग, चोटी; -क- (पुं.) शिरा, चोटी, निर्णय, वह शब्द-समूह जो लेख आदि के विषय-परिचय के लिये उसके ऊपर लिखा जाता है; -घातो- (वि.) सिर काटनेवाला; -च्छेद- (पुं.) सिर काटना; -च्छेदिक- (वि.) वध करने योग्य; -त- (अव्य.) मस्तक पर; -पट्टक- (पुं.) मस्तक पर बाँधने की पट्टी; -भार- (पुं.) माथे पर का बोझ; -रक्ष- (पुं.) शिरस्त्राण, टोप; -रक्षण- (पुं.) पगड़ी; -विडु- (पुं.) सिर का सब से ऊपर का भाग, ऊँचाई में सब से ऊपर का स्थान ।
 शील- (सं. पुं.) चरित्र, आचरण, चाल, व्यवहार, स्वभाव, प्रवृत्ति, उत्तम आचरण; (वि.) स्वभाववाला (समास में); -त्याग- (पुं.) शील छोड़ना; -धर- (वि.) अचरित्र, कोमल स्वभाव का;

-भ्रंश- (पुं.) शील का परित्याग; -वान्- (वि.) कोमल स्वभाववाला; -विल्व- (पुं.) शील का त्याग; -वृत्त- (वि.) सुशील; -शाली- (वि.) अच्छे स्वभाव का ।
 शीली- (सं. वि.) शीलयुक्त ।
 शीलव- (सं. पुं.) शैवाल, सेवार ।
 शीश- (हि. पुं.) देखें 'शीर्ष' ।
 शीशा- (फा. पुं.) काँच, लालटेन का काँच या चिमनी ।
 शीशी- (हि. स्त्री.) काँच की छोटी बोटला ।
 शृंग- (सं. पुं.) वरगद, पाकड़ का पेड़, एक प्राचीन ब्राह्मण राजवंश; -वंश- (पुं.) एक प्राचीन ब्राह्मण राजवंश जो मौर्यों के बाद राजसिंहासन पर बैठा था ।
 शृंठी- (सं. स्त्री.) सोंठ ।
 शृंड- (सं. पुं.) हाथी की सूँड़; -क- (पुं.) एक प्रकार का नगाड़ा ।
 शृंडा- (सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी, मद्य, हाथी की सूँड़; -दंड- (पुं.) हाथी की सूँड़; -पान- (पुं.) कलवरिया ।
 शृंडार- (सं. पुं.) मद्य बनाने या बेचनेवाला ।
 शृंडाल- (सं. पुं.) हस्ती, हाथी ।
 शृंडिक- (सं. पुं.) मद्य विकने का स्थान, कलवरिया ।
 शृंडिका- (सं. स्त्री.) गले के भीतर की घंटी ।
 शृंडिनी- (सं. स्त्री.) छड़दर ।
 शृभ- (सं. पुं.) एक दानव जिसको दुर्गा ने मारा था; -घातिनी- (स्त्री.) दुर्गा ।
 शृक- (सं. पुं.) वस्त्र, कपड़ा, कपड़े का अंचल, पगड़ी, साफा, सिरिस का पेड़; सुग्गा, तोता, व्यास के पुत्र शुक-देव; -कीट- (पुं.) हरे रंग का एक प्रकार का कीड़ा; -सं- (पुं.) सिरिस का पेड़; -तुंड- (पुं.) तोते की चोंच; -देव- (पुं.) वेदव्यास के पुत्र का नाम; -नास- (पुं.) केवाँच; -प्रिय- (पुं.) कमरख; -लप- (वि.) जिसका रंग शुक के समान हो; -वल्लभ- (पुं.) दाडिम, अनार; -बाह- (पुं.) काम-देव; -वृक्ष- (पुं.) सिरिस का पेड़; -शैवा- (स्त्री.) केवाँच ।
 शुकानन- (सं. पुं.) दाडिम, अनार ।
 शुकानन- (सं. वि.) जिसका मुँह मुग्गे के समान हो ।
 शुकी- (सं. स्त्री.) कश्यप की स्त्री, मुग्गी ।
 शुकत- (सं. वि.) निष्पूर, कठोर, अमन, खट्टा, निर्जन, गुनसान ।
 शुकताम्ल- (सं. पुं.) चूक का साग ।
 शुक्ति- (सं. स्त्री.) सोन, मुग्गी, जंग,

हड्डी, ववासीर का रोग; -ज- (पुं.) मोती; -पुटोपम- (पुं.) वदाम; -बीज- (पुं.) मुक्ता, मोती; -मणि- (पुं.) देखें 'शुक्तिबीज'; -बधू- (स्त्री.) सीपी ।

शुक्र- (सं. पुं.) रेत, वीर्य, अग्नि, शक्ति, दल, सामर्थ्य, एक ग्रह का नाम, बृहस्पति-वार के बाद का दिन, शुक्राचार्य; -कर- (पुं.) मज्जा; -दोष- (पुं.) नपुंसकता; -मेह- (पुं.) प्रमेह रोग; -वार- (पुं.) सप्ताह का छठा दिन; -शिष्य- (पुं.) असुर, दैत्य; -सुत- (पुं.) केतु ।

शुक्रांग- (सं. पुं.) मयूर, मोर ।

शुक्रा- (सं. स्त्री.) वंशलोचन ।

शुक्राचार्य- (सं. पुं.) दैत्यों के गुरु जो महर्षि भृगु के पुत्र थे ।

शुक्ल- (सं. वि.) श्वेत वर्ण का, सफेद; (पुं.) चाँदी, नवनीत, मक्खन, विष्णु का एक नाम, ब्राह्मणों की एक पदवी; -ता- (स्त्री.) श्वेतता, सफेदी; -त्व- (पुं.) सफेदी, सितपक्ष, वह पक्ष जिसमें पन्द्रह दिनों तक चन्द्रमा की वृद्धि होती है; -पुष्प- (पुं.) मैनफल; -फल- (पुं.) आक, मदार; -फला- (स्त्री.) शमी वृक्ष; -फेन- (पुं.) समुद्रफेन; -भंडी- (स्त्री.) सफेद सरसों; -मंडल- (पुं.) आँख की पुतली के चारों ओर का सफेद भाग; -वंश- (पुं.) सफेद बाँस; -वक्ष- (पुं.) घव का पेड़; -सारंग- (पुं.) सफेद रंग का पपीहा ।

शुक्लांगी- (सं. स्त्री.) शोफालिका, निर्गुण्डी ।
शुक्ला- (सं. स्त्री.) सरस्वती, चीनी, विदारिकंद ।

शुक्लापांग- (सं. पुं.) मयूर, मोर ।

शुक्लान्द- (सं. पुं.) चूक नाम का साग ।

शुक्लाक- (सं. पुं.) सफेद मदार ।

शुक्लिमा- (सं. स्त्री.) शुक्लता, सफेदी ।

शुक्लोपल- (सं. पुं.) सफेद पत्थर ।

शुक्लोदन- (सं. पुं.) अरवा चावल ।

शुचि- (सं. पुं.) अग्नि, ज्येष्ठ मास, शृंगार रस, चन्द्रमा, शुक्र, ब्राह्मण, कार्तिकेय, पवित्रता; (वि.) स्वच्छ, निर्दोष, शुद्ध, पवित्र, पापरहित; -कर्मा- (वि.) पवित्र कर्म करनेवाला; -ता- (स्त्री.) पवित्रता; -द्रुम- (पुं.) अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष ।

शुचुर- (फा. पुं.) ऊँट; -सुग- (पुं.) अफ्रीका में पाया जानेवाला विशालकाय पक्षी जिसके पंख कीमती और बहुत सुन्दर होते हैं ।

शुद्ध- (सं. वि.) दोषरहित, पवित्र, निर्मल, उज्ज्वल, सफेद, ठीक, सही, बिना मिलावट का, असली; -ता- (स्त्री.) शुद्ध होने का भाव; -पक्ष- (पुं.) शुक्ल पक्ष, अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक का पंद्रह दिन; -बुद्धि- (वि.) पापरहित बुद्धिवाला; -बोध- (वि.) ज्ञानयुक्त; -भाव- (पुं.) पवित्र भावना; -मति- (वि.) पवित्र बुद्धिवाला; -रूपी- (वि.) उज्ज्वल रूपवाला; -वंश्य- (वि.) जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो; -विराज- (पुं.) छन्द का एक भेद; -साध्य वासना- (स्त्री.) शब्द की एक लक्षणा-शक्ति ।

शुद्धांत- (सं. पुं.) अन्तःपुर ।

शुद्धात्मा- (सं. वि.) पवित्र स्वभाव का ।

शुद्धापह्ति- (सं. स्त्री.) वह अलंकार जिसमें उपमेय को असत्य ठहराकर अथवा उसका निषेध करके उपमान की सत्यता स्थापित की जाती है ।

शुद्धावास- (सं. पुं.) स्वर्ग ।

शुद्धि- (सं. स्त्री.) शुद्ध करने की क्रिया, मार्जन, सफाई, अन्य धर्मावलंबी को वैदिक धर्मावलंबी बनाने का संस्कार, स्वच्छता, दुर्गा; -कृत्- (वि.) शुद्धि-कारक; -पत्र- (पुं.) वह पत्र जिसमें मुद्रित पुस्तक की अशुद्धियाँ लिखी रहती हैं ।

शुद्धोदन- (सं. पुं.) एक शाक्य राजा जो बुद्धदेव के पिता थे ।

शुद्धोदनि- (सं. पुं.) विष्णु ।

शुनःशेष- (सं. पुं.) एक ऋषि का नाम ।

शुन- (सं. पुं.) कुक्कुर, कुत्ता, वायु ।

शुनाशीर- (सं. पुं.) इन्द्र और वायु देवता ।

शुनि- (सं. पुं.) कुक्कुर, कुत्ता ।

शुनी- (सं. स्त्री.) कुक्कुरी, कुतिया ।

शुभंकर- (सं. वि.) शुभ या मंगल करनेवाला ।

शुभंकरी- (सं. स्त्री.) पार्वती, दुर्गा ।

शुभ- (सं. पुं.) मंगल, भलाई, ज्योतिष के सत्ताईस योगों में से एक; (वि.) कल्याणकारी, सुन्दर, उत्तम, सुखी;

-कर- (वि.) मंगलजनक; -कर्म-

(पुं.) मंगलजनक कार्य; -कृत- (वि.) कल्याणकारी; -करी- (स्त्री.) पार्वती;

-क्षण- (पुं.) शुभ मुहूर्त; -चित्तक-

(वि.) हितैषी; -द- (वि.) मंगलप्रद;

-दर्शन- (वि.) सुन्दर; -दायी- (वि.) शुभ करनेवाला; -पत्रिका- (स्त्री.)

मंगल-पत्रिका; -प्रद- (वि.) मंगल करने-

वाला; -भावना- (स्त्री.) मंगलजनक-भावना; -मय- (वि.) मंगलमय; -वक्त्रा (स्त्री.) कार्तिकेय की एक मातृका का नाम; -स्थली- (स्त्री.) यज्ञभूमि, पवित्र स्थान ।

शुभांगी- (सं. स्त्री.) कामदेव की पत्नी रति ।

शुभा- (सं. स्त्री.) कान्ति, शोभा, इच्छा ।

शुभागमन- (सं. पुं.) सुखद आगमन ।

शुभाचार- (सं. वि.), जिसका आचार बहुत अच्छा हो ।

शुभाचारा- (सं. स्त्री.) पार्वती की एक सखी का नाम ।

शुभान्वित- (सं. वि.) मंगलयुक्त ।

शुभार्थी- (सं. वि.) शुभ कामना करनेवाला ।

शुभावह- (सं. वि.) मंगलजनक ।

शुभाशय- (सं. वि.) धार्मिक ।

शुभाशुभ- (सं. वि.) शुभ और अशुभ ।

शुभ्र- (सं. वि.) उज्ज्वल, सफेद; (पुं.)

अभ्रक, चाँदी, सेंधा नमक, चंदन; -ता- (स्त्री.) शुक्लता, सफेदी; -रश्मि- (पुं.) चन्द्रमा ।

शुभांशु- (सं. पुं.) चन्द्रमा, कपूर ।

शुभा- (सं. स्त्री.) फिटकरी, चीनी ।

शुभ्रिका- (सं. स्त्री.) मधु से बनाई हुई चीनी ।

शुमार- (फा. पुं.) गिनती, गणना ।

शुक्ल- (सं. पुं.) घाट का कर, राजकर,

वह धन जो घर या उसके पिता द्वारा कन्या को विवाह के दहेज के रूप में दिया जाय, दहेज, मूल, होड़, छात्रों द्वारा विद्याध्ययन के लिए दिया जानेवाला धन;

-शाला- (स्त्री.) वह स्थान जहाँ कर, चुंगी आदि चुकाई जाती है ।

शुक्ल- (सं. पुं.) रज्जु, रस्ती ।

शुश्रूषक- (सं. पुं., वि.) सेवा या शुश्रूषा करनेवाला ।

शुश्रूषा- (सं. स्त्री.) वच्चे का पालन-पोषण, सेवा, परिचर्या, टहल ।

शुश्रूषु- (सं. वि.) सेवा करने का अमिलापी ।

शुष्क- (सं. वि.) अनाद्र, सुखा, नीरस, वृष्टिहीन, स्नेहरहित, निर्माही, निरर्थक, व्यर्थ; -कंठ- (वि.) प्यासा; -ता-

(स्त्री.) शुष्क होने का भाव, नीरसता, निर्दयता, कर्कशता; -पत्र- (पुं.) सूखा पत्ता; -मुख- (वि.) कृपण, कजूस ।

शुष्कली- (सं. पुं.) मांस ।

शुष्काद्र- (सं. पुं.) शुण्ठी, शूठी, सोंठ ।

शुष्ण- (सं. पुं.) सूर्य, अग्नि ।

शुष्म- (सं. पुं.) तेज, पराक्रम ।

शूक- (सं. पुं.) अन्न की बाल, एक प्रकार का कोड़ा, टूंड; -कीट- (पुं.) एक प्रकार

का रोओंवाला कीड़ा; -पिंडी-(स्त्री.) केवाँच ।
 शूकर-(सं. पुं.) बराह, सूअर; -क्षेत्र-(पुं.) नैमिषारण्य के पास के एक तीर्थ का नाम; -शिबी-(स्त्री.) सेम की फली ।
 शूकल-(सं. पुं.) मड़कनेवाला घोड़ा ।
 शूका-(सं. स्त्री.) कपिकच्छु, केवाँच ।
 शूची-(सं. स्त्री.) सूई ।
 शूद्र-(सं. पुं.) आर्यों के चार वर्णों में से अन्तिम वर्ण, (ब्रह्मा के पैर से इस वर्ण की उत्पत्ति मानी जाती है), अन्त्यज वर्ण, शूद्र जाति का पुरुष; -क-(पुं.) शूद्र, विदिशा नगरी का एक राजा जिसका संस्कृत में लिखा हुआ 'मृच्छकटिक' नाटक बहुत प्रसिद्ध है; -ता-(स्त्री.) शूद्र का भाव या धर्म; -त्व-(पुं.) शूद्रता; -युति-(स्त्री.) नीला रंग; -प्रिय-(पुं.) प्याज ।
 शूद्रा, शूद्री-(सं. स्त्री.) शूद्र की स्त्री ।
 शूना-(सं. स्त्री.) गृहस्थ के घर के वे स्थान जहाँ अनजान में अनेक जीवों की हत्या होती है, यथा-चूल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, जल रखने का स्थान आदि ।
 शूनावत्-(सं. पुं.) कसाई ।
 शून्य-(सं. पुं.) रिक्त स्थान, आकाश, विदु, निर्जन स्थान, अभाव, स्वर्ग, विष्णु; (वि.) निर्जन, रहित, खाली; -गर्भ-(वि.) मूख; -ता-(स्त्री.) शून्य का भाव; -वाद-(पुं.) बौद्धों का सिद्धान्त जिसमें जीव तथा ईश्वर की सत्ता नहीं मानी जाती; -वादी-(पुं.) बौद्ध, नास्तिक ।
 शून्या-(सं. स्त्री.) वन्ध्या या बाँझ औरत ।
 शून्यालय-(सं. पुं.) एकान्त स्थान ।
 शूप-(हिं. पुं.) शूर्प, सूप ।
 शूपकार-(हिं. पुं.) देखें 'सूपकार' ।
 शूम-(अ. वि.) कृपण, कंजूस ।
 शूर-(सं. पुं.) वीर, योद्धा, सूर्य, सिंह, वड़हर, मसूर, विष्णु, चीते का पेड़; (वि.) शक्तिशाली, वीर; -ता-(स्त्री.), -त्व-(पुं.) वीरता; -ताई-(हिं. स्त्री.) वीरता; -भूमि-(स्त्री.) उग्रसेन की एक कन्या का नाम; -विद्या-(स्त्री.) युद्ध करने की विद्या; -वीर-(पुं.) वीर योद्धा; -०ता-(हिं. स्त्री.) शौर्य; -सेन-(पुं.) मयुरा के एक राजा जो श्रीकृष्ण के दादा (पितामह) थे ।
 शूरण-(सं. पुं.) जमीकन्द, ओल ।
 शूरन-(हिं. पुं.) देखें 'सूरन' ।
 शूरा-(हिं. पुं.) सूर्य ।
 शूर्प-(सं. पुं.) गेहूँ, चावल आदि पछोड़ने

का पात्र, मूप, बत्तीस सेर का एक प्राचीन परिमाण; -रुर्ण-(पुं.) गणेश ।
 शूर्पणखा-(सं. स्त्री.) रावण की वहिन का नाम ।
 शूर्पी-(सं. स्त्री.) बच्चों के खेलने का एक प्रकार का खिलौना ।
 शूर्म-(सं. पुं.) लोहे की बनी हुई मूर्ति ।
 शूल-(सं. पुं.) मृत्यु, ज्योतिष के सत्ताईस योगों में से नवाँ योग, प्राचीन समय का वरुणा, लोहे की कील, सूली जिस पर अभियुक्त को चढ़ाकर प्राचीन काल में प्राणदण्ड दिया जाता था, त्रिशूल, व्यथा, पेट में होनेवाली तीव्र पीड़ा या वेदना जो वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है, टीस, पीड़ा, झंडा, पताका; -ग्रह-(पुं.) शिव; -घ्न-(वि.) शूल या पीड़ा मिटानेवाला; -घन्वा-(पुं.) शिव, महादेव; -घर, -घारी-(पुं.) शिव; -घरा-(स्त्री.) दुर्गा; -पाणि-(पुं.) शिव, महादेव; -प्रोत-(पुं.) नरक के एक भाग का नाम; -योग-(पुं.) फलित ज्योतिष में एक योग का नाम; -हस्त-(पुं.) महादेव ।
 शूलना-(हिं. क्रि. अ.) व्यथा या पीड़ा होना ।
 शूलंग-(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 शूला-(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी, लोहे की नुकीली छड़, सूली ।
 शूलक-(सं. पुं.) शशक, खरहा ।
 शूलिका-(सं. स्त्री.) सीकचे में गोदकर बना हुआ मांस, कवाव ।
 शूलिनी-(सं. स्त्री.) दुर्गा का एक नाम ।
 शूलमुख-(सं. पुं.) एक नरक का नाम ।
 शूली-(सं. स्त्री.) देखें 'सूली' ।
 शूली-(सं. वि., पुं.) शून धारण करनेवाला, शिव ।
 शूलल-(सं. पुं.) कमर में पहनने की मेखला, करवनी, हथकड़ी, वेड़ी, परंपरा, रीति, क्रम; -ता-(स्त्री.) क्रमबद्ध होने का भाव, क्रमिकता ।
 शूलला-(सं. स्त्री.) क्रम, मेखला, करवनी, तागड़ी, ध्रेणी, परंपरा; -बद्ध-(वि.) क्रमिक, सिकड़ी से बंधा हुआ ।
 शूललित-(सं. वि.) क्रमबद्ध, सिकड़ी से बंधा हुआ ।
 शृंग-(सं. पुं.) पर्वत का शिखर, चोटी, (गौ, मँस आदि) पशुओं का सींग, चिह्न, मकान आदि का ऊपरी भाग, प्रभुत्व, कमल, सोंठ, अदरक, स्तन, छाती; (वि.) तीक्ष्ण; -कंद-(पुं.) सिंघाड़ा; -रूट-(पुं.) एक पर्वत का

नाम; -पुर-(पुं.) एक पर्वत का नाम; -रह-(पुं.) सिंघाड़ा; -वेर-(पुं.) सोंठ, अदरक; -०पुर-(पुं.) रामायण में कथित निपादराज गृह की पुरी का नाम ।
 शृंगाट, शृंगाटक-(सं. पुं.) चतुष्पथ, चौराहा, चामुहानी, सिंघाड़ा, गोखरू ।
 शृंगार-(सं. पुं.) सिन्दूर, लवंग, रत्ति, मैथुन, साहित्य का एक प्रधान रस जिसका आविर्भाव स्त्री-पुरुष के संभोग करने की कामना से होता है, (इसमें नायक-नायिका के परस्पर मिलने पर होनेवाले सुख का निदर्शन रहता है। इसके संयोग और वियोग दो प्रधान भेद हैं), स्त्रियों का आभूषण, वस्त्र आदि से शरीर को सुगोभित करना, सजावट, शोभा देनेवाला वस्तु, भक्ति का एक प्रकार जिसमें भक्त अपने इष्ट देवता को पति और अपने को पत्नी मानता है ।
 शृंगारक-(सं. पुं.) सिन्दूर, सेतुद्र ।
 शृंगारजन्मा-(सं. पुं.) कामदेव ।
 शृंगारना-(हिं. क्रि. स.) शृंगार करना, सजाना ।
 शृंगारभूषण-(सं. पुं.) सिन्दूर, हरताल ।
 शृंगारमंडप-(सं. पुं.) वह स्थान जहाँ नायक और नायिका क्रीड़ा करते हैं ।
 शृंगारद्योति-(सं. पुं.) मदन, कामदेव ।
 शृंगारवेश-(सं. पुं.) शृंगार या रत्ति के लिये सजावट ।
 शृंगारहाट-(सं. पुं.) वेश्याओं के रहने का स्थान ।
 शृंगारिक-(सं. वि.) शृंगार-सम्बन्धी ।
 शृंगारिणी-(सं. स्त्री.) शृंगार करनेवाली स्त्री, एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में वारह अक्षर होते हैं, (इसका दूसरा नाम लक्ष्मिणी, मोहना या लक्ष्मीवरा है ।)
 शृंगारित-(सं. वि.) शृंगार किया हुआ, सँवारा हुआ ।
 शृंगारिया-(हिं. पुं.) देवी-देवता का शृंगार करनेवाला, बहुरूपिया ।
 शृंगारहा-(सं. स्त्री.) सिंघाड़ा ।
 शृंगारिका-(सं. स्त्री.) विदारिकन्द ।
 शृंगि-(सं. स्त्री.) तिषी मच्छली ।
 शृंगिका-(सं. स्त्री.) मेठानिगी, पीतल, जतौस ।
 शृंगी-(सं. स्त्री.) काकड़ानिगी, अर्नास, बरगद, मजीठ, आमना; (पुं.) शिव, महादेव, सींग का यन्त्र हुआ एक प्रकार का वाजा, सिंग, पर्वत, वृक्ष, एक शक्ति जो शमीक के पुत्र थे; (वि.) शृंगमूल; -गिरि-(पुं.) एक पर्वत का नाम ।

शृंगेरी मठ—(सं. पुं.) शंकराचार्य के एक प्रसिद्ध मठ का नाम ।
 शृंगाल—(सं. पुं.) गीदड़, सियार, खल, भीरु व्यक्ति, डरपोक;—घंटी—(स्त्री.) तालमखाना;—जंबु—(पुं.) तरबूज ।
 शृंगालिका, शृंगाली—(सं. स्त्री.) मादा सियार, सियारिन ।
 शृत—(सं. पुं.) क्वाथ, काढ़ा ।
 शृव—(सं. पुं.) मलद्वार, गुदा; (वि.) भ्रष्ट ।
 शृष्टि—(सं. पुं.) कंस के आठ भाइयों में से एक ।
 शेख—(पुं.) मुसलमानों में एक जाति ।
 शेखर—(सं. पुं.) शिरोभूषण, किरीट, मुकुट, चोटी, माथा, श्रेष्ठतासूचक शब्द, पिंगल में त्रगण का एक भेद ।
 शेखरित—(सं. वि.) मुकुटयुक्त ।
 शेखरी—(सं. स्त्री.) लवंग, सहिजन की जड़ ।
 शेखावत—(हिं. पुं.) राजपूत क्षत्रियों का एक भेद ।
 शेखी—(हिं. स्त्री.) घमंड, डींग; (मुहा.)—वधारन डींग मारना ।
 शेफ—(सं.-पुं.) शिक्षण, लिंग ।
 शेर—(फा. पुं.) सिंह, बाघ, व्याघ्र, बहुत साहसी व्यक्ति ।
 शेरपंजा—(हिं. पुं.) वधनखा नामक अस्त्र ।
 शेरवच्छा—(हिं. पुं.) पराक्रमी पुरुष, एक प्रकार की छोटी बंदूक ।
 शेरवानी—(फा. स्त्री.) एक प्रकार का लंबा कोट-जैसा मुसलमानी पहनावा ।
 शेलक—(सं. पुं.) लिसोड़ा ।
 शेव—(सं. पुं.) मेढ़, लिंग, सर्प, उन्नति, ऊँचाई, सुख ।
 शेव—(सं. पुं.) अनन्त, सर्पराज, अवशिष्ट भाग, समाप्ति, अन्त, परिणाम, वध, नाश, लक्ष्मण, दिग्गज, छप्पय छन्द का एक भेद, स्मारक वस्तु, बलराम, परमेश्वर, घटाने से या भाग देने पर बची हुई संख्या; (वि.) बचा हुआ, बाकी, उच्छिष्ट;—घर—(पुं.) शिव, महादेव;—नाग—(पुं.) अनन्त;—भाग—(पुं.) बचा हुआ भाग;—भूषण—(पुं.) विष्णु;—राज—(पुं.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में दो यगण होते हैं;—रात्रि—(स्त्री.) रात का पिछला पहर;—व—(पुं.) कार्य देखकर कारण का अनुमान;—शायी—(पुं.) शेष-नाग पर शयन करनेवाले विष्णु ।
 शेपांश—(सं. पुं.) बचा हुआ अंश या भाग ।

शेषा—(सं. स्त्री.) देवता को चढ़ाया हुआ नैवेद्य जो प्रसाद के रूप में बाँटा जाता है ।
 शेषोक्त—(सं. वि.) अन्त में कहा हुआ ।
 शैक्या—(सं. पुं.) सिकहर, छीका; (वि.) दृढ़ ।
 शैखरेय—(सं. पुं.) अपामार्ग, चिचड़ा ।
 शैद्र्य—(सं. पुं.) शीघ्रता ।
 शैतान—(अ. पुं.) राक्षस, दैत्य, असुर ।
 शैतानी—(अ. वि.) शैतान का; (स्त्री.) शैतान का काम, द्रुष्टता ।
 शैत्य—(सं. पुं.) शीत, ठंडक ।
 शैथिल्य—(सं. पुं.) शिथिलता, ढिलाई ।
 शैनेय—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण के एक सारथी का नाम ।
 शैल—(सं. पुं.) चट्टान, रसवत, शिलाजीत, पर्वत, पहाड़; (वि.) पथरीला, कठोर;—कन्या—(स्त्री.) पार्वती;—कुमारी—(स्त्री.) पार्वती;—गंगा—(स्त्री.) गोवर्धन पर्वत की एक नदी जिसमें श्रीकृष्ण ने सब तीर्थों का आवाहन किया था;—गुरु—(पुं.) हिमालय पर्वत;—जा—(स्त्री.) पार्वती, गजपिप्पली, दुर्गा;—तटी—(स्त्री.) पहाड़ की तराई;—तनया,—दुहिता—(स्त्री.) पार्वती;—घर—(पुं.) श्रीकृष्ण;—नंदिनी—(स्त्री.) पार्वती;—पति—(पुं.) हिमालय;—पथ—(पुं.) पहाड़ी मार्ग;—पुत्री—(स्त्री.) पार्वती, गंगा, नौ दुर्गाओं में से एक;—बीज—(पुं.) मिलावाँ;—रंझ—(पुं.) पहाड़ी गुफा;—राज—(पुं.) हिमालय पर्वत;—शिखा—(स्त्री.) एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में उन्नीस अक्षर होते हैं;—शृंग—(पुं.) पर्वत का शिखर;—संभव—(पुं.) शिलाजीत;—सुता—(स्त्री.) पार्वती, दुर्गा;—सेतु—(पुं.) पत्थर का पुल ।
 शैलाग्र—(सं. पुं.) पर्वत का शिखर ।
 शैलाट—(सं. पुं.) पहाड़ी आदमी ।
 शैलादि—(सं. पुं.) शिव के एक गण ।
 शैलाधिराज—(सं. पुं.) हिमालय पर्वत ।
 शैलासा—(सं. स्त्री.) पार्वती ।
 शैलाह्व—(सं. पुं.) शिलाजीत ।
 शैली—(सं. स्त्री.) चाल-ढाल, ढंग, रीति, प्रथा, प्रणाली, परिपाटी, (काव्य, कला आदि की) रचना की रीति, पत्थर की मूर्ति ।
 शैलू—(हिं. पुं.) लिसोड़ा, एक प्रकार की चटाई ।
 शैलूक—(सं. पुं.) कमलदण्ड, मसींड़ ।
 शैलप—(सं. पुं.) अभिनय करनेवाला, नट,

वेल का वृक्ष, धूर्त मनुष्य, गंधर्वों का स्वामी ।
 शैलूषिकी—(सं. स्त्री.) नट जाति की स्त्री, नटी ।
 शैलेंद्र—(सं. पुं.) शैलराज, हिमालय ।
 शैलेय—(सं. पुं.) तालपर्णी, शिलाजीत, सेंधा नमक, सिंह, भौरा; (वि.) शैल-संबंधी, पहाड़ी, पथरीला, पत्थर के समान ।
 शैलेयी—(सं. स्त्री.) पार्वती ।
 शैलेश—(सं. पुं.) हिमालय पर्वत ।
 शैलेश्वर—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 शैत्य—(सं. वि.) पथरीला, कड़ा, कठोर ।
 शैव—(सं. पुं.) धतूरा, शिव का उपासक, पाशुपत अस्त्र; (वि.) शिव-संबंधी, शिव का;—पत्र—(पुं.) विल्वपत्र ।
 शैवल—(सं. पुं.) पद्माक्ष, सेवार, एक देश का नाम ।
 शैवालिनी—(सं. स्त्री.) नदी ।
 शैवाल—(सं. पुं.) सेवार ।
 शैवी—(सं. स्त्री.) पार्वती, मनसा नाम की देवी, मंगल, कल्याण ।
 शैव्य—(सं. वि.) शिव-संबंधी, शिव का ।
 शैव्या—(सं. स्त्री.) राजा हरिश्चन्द्र की रानी का नाम ।
 शैशव—(सं. पुं.) बाल्यावस्था, बचपन, लड़कपन; (वि.) बचपन का, शिशु-संबंधी ।
 शैशिर—(सं. वि.) शिशिर-संबंधी, शिशिर में उत्पन्न ।
 शोक—(सं. पुं.) वह मनोविकार जो अनिष्ट अथवा इष्ट-नाश से उत्पन्न होता है, शोच, खेद;—कर,—कारक—(वि.) शोकजनक;—नाश—(पुं.) शोक का नाश;—स्य—(वि.) शोक से पूर्ण;—वत्,—वान्—(वि.) शोकयुक्त;—हर—(पुं.) एक छन्द का नाम; (वि.) शोकहारी;—हारी—(वि.) शोक को दूर करनेवाला ।
 शोकाकुल—(सं. वि.) शोक से व्याकुल ।
 शोकातुर—(सं. वि.) दुःख या शोक से व्याकुल ।
 शोकार्त—(सं. वि.) शोकाकुल ।
 शोच—(सं. पुं.) चिन्ता, दुःख ।
 शोचनीय—(सं. वि.) शोक करने योग्य, बहुत दीन ।
 शोचित्तव्य—(सं. वि.) शोक करने योग्य ।
 शोच्य—(सं. वि.) चिन्ता करने योग्य ।
 शोण—(सं. पुं.) सिन्दूर, रुधिर, अग्नि, लाल रंग, ललाई, सोना, एक नदी का नाम, मंगल-ग्रह;—पुष्पक—(पुं.) कचनार;—भद्र—(पुं.) सोन नदी;

—मणि—(पुं.) पद्मराग मणि, मानिक ।
 शोणित—(सं. पुं.) रक्त, कुंकुम, केसर, इंगुर; (वि.) लाल रंग का, लाल ।
 शोणितोत्पल—(सं. पुं.) लाल कमल ।
 शोणितोद—(सं. पुं.) एक यक्ष का नाम ।
 शोथ—(सं. पुं.) किसी अंग का फूल जाना, सूजन ।
 शोथक—(सं. पुं.) शोथ, मुरदासंख ।
 शोच—(सं. पुं.) निर्मलता, परीक्षा, जाँच, अनुसन्धान, खोज, शुद्ध करने की क्रिया, परिशोध; —क—(पुं.) खोजने या ढूँढनेवाला, सुधारक, वह संख्या जिसके घटाने से वर्गमूल पूर्ण संख्या हो ।
 शोधन—(सं. पुं.) शौच, शुद्धता, पवित्रता, प्रायश्चित्त, धातुओं को औषध बनाने के लिये शुद्ध करना, ऋण चुकाना, अशुद्धियों को ठीक करना, शुद्ध करना, स्वच्छ करना, आचरण सुधारने के लिये दण्ड देना, खोजना, ढूँढना, छान-बीन, जाँच, शरीर की धातुओं को वमन, विरेचन आदि से शुद्ध करना ।
 शोधना—(हिं. क्रि. स.) शुद्ध करना, औषध बनाने के लिये धातु आदि को शुद्ध करना, खोजना, ढूँढना, सुधारना, ठीक करना ।
 शोधनी—(सं. स्त्री.) मार्जनी, झाड़ू, वुहारी ।
 शोधनीय—(सं. वि.) शुद्ध करने के योग्य ।
 शोधवाना—(हिं. क्रि. स.) शोधने का काम दूसरे से कराना, ठीक कराना ।
 शोधित—(सं. वि.) परिष्कृत, शुद्ध किया हुआ ।
 शोधैया—(हिं. पुं.) शोधनेवाला, सुधारक ।
 शोफ—(सं. पुं.) शोथ, सूजन ।
 शोभ—(सं. पुं.) शोभन, शोभा; (वि.) शोभायुक्त, सुन्दर; —न—(पुं.) शुभ, कल्याण, ज्योतिष के सत्ताईस योगों में से एक, धर्म, पुण्य, सौन्दर्य, एक मात्रिक छन्द का नाम, मालकोश राग का एक मेद, आभूषण, शिव का एक नाम; (वि.) उत्तम, रमणीय, उचित, सुहावना ।
 शोभना—(सं. स्त्री.) हर्षिता, हल्दी, गोरोचन, सुन्दर स्त्री; (वि. स्त्री.) सुन्दरी; (क्रि. अ.) सुशोभित होना ।
 शोभनीय—(सं. वि.) शोभा के योग्य, सुंदर ।
 शोभा—(सं. स्त्री.) दीप्ति, चमक, कान्ति, शक्ति, छवि, सुन्दरता, छटा, सजावट, वीस अक्षरों का एक वर्णवृत्त, हल्दी, गोरोचन, चमेरी ।
 शोभाजन—(सं. पुं.) सहजन का वृक्ष ।
 शोभाकर—(सं. वि.) शोभा उत्पन्न करनेवाला ।

शोभान्वित—(सं. वि.) शोभायुक्त ।
 शोभायमान—(सं. वि.) सुन्दर, सहाता हुआ ।
 शोभावती—(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में चौदह अक्षर होते हैं ।
 शोभित—(सं. वि.) शोभायुक्त, विभूषित ।
 शोर—(फा. पुं.) हल्ला, कोलाहल ।
 शोरवा—(फा. पुं.) तरकारी का रसा या सुखा ।
 शोला—(हिं. पुं.) एक प्रकार का छोटा वृक्ष; (फा. पुं.) आग की लपट, ज्वाला ।
 शोष—(सं. पुं.) सूखने का भाव, शोषण, यक्ष्मा रोग, वच्चों का सुखंडी रोग ।
 शोषक—(सं. वि.) सोखनेवाला, शोषण करनेवाला, नाश करनेवाला ।
 शोषण—(सं. पुं.) सोखना, सुखाना, क्षीण करना, नाश करना पूजीपतियों द्वारा श्रमिक वर्ग से अनुचित लाभ उठाना ।
 शोषणीय—(सं. वि.) शोषण के योग्य ।
 शोषित—(सं. वि.) सोखा हुआ, सुखाया हुआ, जिसका शोषण किया गया हो (श्रमिक वर्ग आदि) ।
 शोहरत—(अ. स्त्री.) प्रसिद्धि, ख्याति ।
 शौंड—(सं. वि.) जो मद्य पीकर मतवाला हो, प्रगल्भ; —ता—(स्त्री.) मत्तता ।
 शौंडी—(सं. पुं.) पिप्पली, मिर्च ।
 शौंडीर—(सं. वि.) अहंकारी, घमंडी ।
 शोक—(अ. पुं.) चाह, रचि, इच्छा, रहन-सहन या बनाव-सिगार का स्तर ।
 शौकीन—(अ. वि.) जिसे शोक हो ।
 शौकीनी—(हिं. स्त्री.) शौक ।
 शोक्तिक—(सं. वि.) भूवता या सीपी-संबंधी ।
 शोक्तिका—(सं. स्त्री.) सीप ।
 शोक्तेय—(सं. वि.) शुकित-संबंधी ।
 शौखेय—(सं. पुं.) गरुड़ पक्षी, श्येन पक्षी, वाज शौच—(सं. पुं.) शुचिता, पवित्रता, निषिद्ध खाद्य वस्तुओं का वर्जन, मलत्याग आदि कृत्य जो प्रातःकाल उठकर सब से पहले किये जाते हैं; —कर्म—(पुं.), —विधि—(स्त्री.) शास्त्रानुसार शुद्धि की क्रिया ।
 शौचाचार—(सं. पुं.) शौच-कर्म ।
 शौचेय—(सं. पुं.) रजक, घोदी ।
 शौटीर—(सं. पुं.) त्यागी, वीर ।
 शौन—(सं. पुं.) वह मांस जो विक्री के लिये रखा हो ।
 शौनक—(सं. पुं.) एक वैदिक ऋषि का नाम ।
 शौनिक—(सं. पुं.) आखेट, मृगया ।
 शौरसेन—(सं. वि.) महाराज शूरसेन का राज्य ।
 शौरसेनी—(सं. स्त्री.) प्राचीन काल की एक प्रसिद्ध प्राकृत भाषा ।

शौरि—(सं. पुं.) विष्णु, शनि ग्रह, कृष्ण ।
 शौरिप्रिय—(सं. पुं.) हीरक, हीरा ।
 शौरिरत्न—(सं. पुं.) नीलम ।
 शौर्य—(सं. पुं.) शूरता, वीरता ।
 शौल—(सं. पुं.) लांगल, हल का फार ।
 शौलिकक—(सं. पुं.) शुक, कर आदि उगाहनेवाला अधिकारी ।
 शौल्फ—(सं. पुं.) सॉफ, मुल्फे का साग ।
 श्मन्—(सं. पुं.) मुख, शव ।
 श्मशान—(सं. पुं.) शव जलाने का स्थान, मरघट; —पति—(पुं.) शिव, महादेव; —भैरवी—(स्त्री.) दुर्गा; —वासी—(पुं.) शिव, चाण्डाल; —वासिनी—(स्त्री.) काली ।
 श्मश्रु—(सं. पुं.) मुख पर के बाल, दाढ़ी, मूँछ; —कर—(पुं.) हज्जाम; —ल—(वि.) दाढ़ी-मूँछवाला; —शेखर—(पुं.) नारियल का पेड़ ।
 श्याम—(सं. वि.) काला, साँवले रंग का; (पुं.) मेघ, बादल, कोयल, बतूरा, दौत्रा, एक राग का नाम, श्रीकृष्ण का एक नाम —कंठ—(पुं.) नीलकंठ पक्षी, मोर, शिव, महादेव; —क—(वि.) काले रंग का; —कर्ण—(पुं.) वह सफेद घोड़ा जिसके कान काले होते हैं; —जीरा—(हिं. पुं.) काला जीरा, एक प्रकार का महीन धान; —टीका—(हिं. पुं.) काला टीका जो वच्चों को कुदृष्टि से बचाने के लिये लगाया जाता है; —ता—(स्त्री.) कृष्णता, कालापन, मलिनता, उदासी; —पर्ण—(पुं.) सिरिस का पेड़; —पूरबी—(हिं. पुं.) एक प्रकार का संकर राग; —मंजरी—(स्त्री.) एक प्रकार की काली मिट्टी जिसका तिलक वैष्णव लोग लगाते हैं; —मृग—(पुं.) काला हरिन; —सुंदर—(पुं.) श्रीकृष्ण ।
 श्यामल—(सं. वि.) काले रंग का साँवला; (पुं.) एक प्रकार का बहुत विपला विच्छू; —ता—(स्त्री.) कालापन, साँवलापन ।
 श्यामला—(सं. स्त्री.) पावंती, जामुन, कस्तूरी ।
 श्यामांग—(सं. वि.) साँवले रंग का ।
 श्यामा—(सं. स्त्री.) श्याम वर्ण की स्त्री, राधा का एक नाम, एक गोरी का नाम, मोलह वर्ण की तरंगी, कानिषा देवी, रात, छाया, यमना, रागी भाव, कोयल, साँवा नामक अन्न, बुद्धी, कर्म-वस्तु, कस्तूरी, हर्षी, हरीतकी, नारियल ।

श्याल, श्यालक—(सं. पुं.) पत्नी का भाई, साला, भगिनीपति, वहनोई; (हि. पुं.) सियार, गीदड़।

श्यालिका—(सं. स्त्री.) पत्नी की वहिन, साली।

श्येन—(सं. पुं.) वाज नामक पक्षी।

श्येनगासी—(सं. वि.) वेग से जानेवाला।

श्येनिका—(सं. स्त्री.) वाज पक्षी की मादा, एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर होते हैं।

श्येनी—(सं. स्त्री.) मादा वाज, कश्यप की एक कन्या का नाम।

श्योणाक, श्योनाक—(सं. पुं.) सोनापाठा नामक क्षुप, लोध।

श्रद्धा—(सं. स्त्री.) बड़ों के प्रति पूज्य-भाव, विश्वास, आदर, स्पर्हा, कामना, शास्त्रादि में दृढ़ भक्ति, बड़ों के वचनों में विश्वास, आस्था, चित्त की प्रसन्नता, भक्ति, कर्दम मुनि की कन्या जो अत्रि ऋषि को व्याही थी; -तव्य—(वि.) श्रद्धा करने योग्य; -देय—(वि.) श्रद्धापूर्वक दिया जानेवाला; -मय—(स्त्री.) श्रद्धा से पूर्ण; -लु—(स्त्री.) वह स्त्री जिसके मन में गर्भावस्था के कारण अनेक प्रकार की अभिलाषाएँ हों; (वि.) श्रद्धायुक्त, श्रद्धावान्; -वान्—(वि.) श्रद्धायुक्त, जिनके मन में श्रद्धा हो।

श्रद्धास्पद—(सं. वि.) श्रद्धा का पात्र, पूजनीय।

श्रद्धेय—(सं. वि.) श्रद्धा के योग्य।

श्रम—(सं. पुं.) प्रयास, अभ्यास, परिश्रम, थकावट, शास्त्रों का अभ्यास, तपस्या, चिकित्सा, व्यायाम, स्वेद, पसीना, साहित्य के संचारी भावों में से एक; -कण—(पुं.) पंसीने की बूँद; -कर—(वि.) परिश्रम करनेवाला; -घ्न—(वि.) श्रम को मिटानेवाला; -च्छिद्—(वि.) श्रम को दूर करनेवाला; -जल—(पुं.) पसीना; -जित्—(वि.) परिश्रम करने पर न थकनेवाला; -जीवी—(वि.) परिश्रम करके पेट पालनेवाला; -विदु—(पुं.) पसीने की बूँद; -वारि—(पुं.) स्वेद, पसीना; -विनोद—(पुं.) परिश्रम से होनेवाला सुख; -विभाग—(पुं.) कारखाने में कार्य का विभाग; -शीकर—(पुं.) श्रमकण, पसीना; -साध्य—(वि.) परिश्रम से किया जानेवाला; -सिद्ध—(वि.) परिश्रम से प्राप्त; -स्थान—

(पुं.) कार्यालय, परिश्रम करने का स्थान।

श्रमण—(सं. पुं.) बौद्ध संन्यासी, नीच कर्म करनेवाला, नीच कर्मजीवी।

श्रमांदु—(सं. पुं.) श्रमवारि, पसीना।

श्रमिक—(सं. पुं.) नौकर, मजदूर।

श्रमित—(सं. वि.) श्रान्त, शिथिल, थका हुआ।

श्रमी—(सं. पुं.) परिश्रमी व्यक्ति, श्रमजीवी।

श्रयण—(सं. पुं.) आश्रय।

श्रवण—(सं. पुं.) श्रवणेन्द्रिय, कान, सुनने की क्रिया, नौ प्रकार की भक्तियों में से एक, एक नक्षत्र; -गोचर—(वि.) कर्ण-गोचर, जो सुनाई पड़ता हो या पड़ सके; -पथ—(पुं.) कान; -विद्या—(स्त्री.) संगीत-शास्त्र; -विभ्रम—(पुं.) सुनने की भूल; -विषय—(पुं.) श्रवणगोचर शब्द, कथन आदि; -व्याधि—(स्त्री.) कान का रोग।

श्रवणा—(सं. स्त्री.) अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों में से बाईसवाँ नक्षत्र।

श्रवणीय—(सं. वि.) सुनने योग्य।

श्रवन—(हि. पुं.) सुनना, कान।

श्रवना—(हि. क्रि. अ., सं.) वहना, गिराना, वहाना।

श्रविष्ठा—(सं. स्त्री.) घनिष्ठा नक्षत्र; -रमण—(पुं.) चन्द्रमा।

श्रव्य—(सं. वि.) सुनने योग्य, जो सुना जा सके।

श्रांत—(सं. पुं.) तपस्वी; (वि.) जितेन्द्रिय, खिन्न, दुःखी, निवृत्त, थका हुआ, श्रम से क्लान्त।

श्रांति—(सं. स्त्री.) थकान, श्रम, खेद, दुःख।

श्राद्ध—(सं. पुं.) श्रद्धापूर्वक किया हुआ कार्य, वह कर्म जो शास्त्र-विधि के अनुसार पितरों के उद्देश्य से किया जाता है; -कर्ता—(पुं.) श्राद्ध करने का अधिकारी; -कर्म—(पुं.) पितरों को पिंडदान आदि; -काल—(पुं.) अशीच के अन्त का दूसरा दिन; -पक्ष—(पुं.) पितृपक्ष; -भोक्ता—(पुं.) श्राद्ध भोजन करनेवाला ब्राह्मण।

श्राद्धिक—(सं. वि.) श्राद्ध-संबंधी (द्रव्यादि)।

श्राप—(हि. पुं.) देखें 'शाप'।

श्राम—(सं. पुं.) मण्डप, घर, काल, समय।

श्राव—(सं. पुं.) श्रवण, कान।

श्रावक—(सं. पुं.) बौद्ध या जैन संन्यासी, नास्तिक, कौआ, शिष्य, दूर का शब्द।

श्रावण—(सं. पुं.) कान से सुनकर अर्जित ज्ञान, वर्ष का चौथा महाना जिसकी

पूर्णिमा तिथि को श्रवण नक्षत्र रहता है।

श्रावणा—(सं. स्त्री.) सुदर्शना नामक वृक्ष, भूकदम्ब।

श्रावणी—(सं. स्त्री.) श्रवण नक्षत्रयुक्त पौर्णमासी, श्रावण मास की पूर्णिमा, (इस दिन हिंदुओं का 'रक्षाबंधन' या 'सलोनो' नामक त्योहार होता है।)

श्रावणितव्य—(सं. वि.) सुनाने योग्य।

श्रावस्ती—(सं. स्त्री.) एक प्राचीन जनपद और उसकी राजधानी, (इसको आजकल 'सहेत-महेत' कहते हैं।)

श्रावित—(सं. वि.) सुनाया गया।

श्राव्य—(सं. वि.) श्रोतव्य, सुनने लायक।

श्रित—(सं. वि.) सेवित, आश्रित, पका हुआ।

श्रियंमन्या—(सं. स्त्री.) अपने को लक्ष्मी समझनेवाली स्त्री।

श्रिय—(सं. पुं.) मंगल, कल्याण, शोभा।

श्रिया—(सं. स्त्री.) विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी।

श्री—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी, कमला, कीर्ति, यश, पद्म, कमल, वृद्धि, सिद्धि, वेल का वृक्ष, मति, ऐश्वर्य, अधिकार, उपकरण, त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम), सरस्वती प्रभा, शोभा, ऋद्धि और सिद्धि नामक औषधियाँ, कान्ति, चमक, सफेद चन्दन, विदी नामक स्त्रियों का आभूषण, एक आदर-सूचक शब्द जो नाम के आगे लिखा जाता है, वैष्णवों का एक सम्प्रदाय, एकाक्षर छन्द विशेष, एक राग का नाम; -कंठ—(पुं.) शिव, महादेव, एक पक्षी का नाम; -कर—(पुं.) लाल कमल, विष्णु; (वि.) शोभा कारक; -करण—(पुं.) लेखनी, कायस्थों की एक शाखा; -कांत—(पुं.) लक्ष्मीपति, विष्णु; -काम—(वि.) घनघान्य की कामना करनेवाला; -कीर्ति—(स्त्री.) ताल का एक भेद; -कृष्ण—(पुं.) द्वारकानाथ, वासुदेव, कृष्ण; -क्षेत्र—(पुं.) जगन्नाथ पुरी तथा उसके आस-पास का प्रदेश; -खंड—(पुं.) हरिचन्दन; -शैल—(पुं.) मलय पर्वत; -गंध—(पुं.) सफेद चन्दन; -गदित—(पुं.) साहित्य में रूपक का एक भेद; -नर्भ—(पुं.) विष्णु, खड्ग, तलवार; -गेह—(पुं.) पद्म, कमल; -चक्र—(पुं.) त्रिपुर-सुन्दरी का पूजा-मन्त्र विशेष, इन्द्र के रथ, का चक्र; -टंक—(पुं.) संगीत में एक प्रकार का राग; -तृ—(पुं.)

साल का पेड़; -ताल-(पुं.) एक प्रकार का ताल वृक्ष; -दयित-(पुं.) विष्णु; -दामा-(पुं.) श्रीकृष्ण के एक ग्वाल सखा का नाम; -घर-(पुं.) शाल-ग्राम-चक्र, विष्णु; (वि.) तेजस्वी, तेजवान्; -नाथ-(पुं.) विष्णु; -निकेत-(पुं.) लाल कमल, सुवर्ण, सोना, वैकुण्ठ; -निकेतन-(पुं.) विष्णु, वैकुण्ठ; -निधि-(पुं.) विष्णु; -निवास-(पुं.) लक्ष्मी का निवास, विष्णु; -पंचमी-(स्त्री.) माघ शुक्ला पंचमी, वसन्त-पंचमी; -पति-(पुं.) विष्णु, कृष्ण, नारायण, कुबेर, राजा; -पथ-(पुं.) राजमार्ग, बड़ी और चौड़ी सड़क; -पर्ण-(पुं.) पद्म, कमल; -पाद-(पुं.) पूज्यपाद, वह जिसका चरण पूजने योग्य हो; -पुत्र-(पुं.) एक प्रकार का छन्द; -पुत्र-(पुं.) कामदेव, इंद्र का घोड़ा; -प्रद-(वि.) ऐश्वर्य देनेवाला; -प्रदा-(स्त्री.) राधा; -प्रसून-(पुं.) लवंग, लौंग, -प्रिय-(पुं.) हरताल; -फल-(पुं.) वेल का वृक्ष, आंबला; -फला-(स्त्री.) करेली, आमला; -बंधु-(पुं.) अमृत; -बीज-(पुं.) ताड़ का वृक्ष; -भक्ष-(पुं.) देवता को चढ़ाने का मधुपर्क; -भानु-(पुं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम; -मंजरी-(स्त्री.) तुलसी, सुरसा; -मंत-(पुं.) एक प्रकार का आभूषण, स्त्रियों के सिर के बीच की मार्ग; (वि.) धनवान्, वनाढ्य; -मत्-(वि.) ऐश्वर्यशाली, धनवान्, श्रीयुक्त, सुन्दर; (पुं.) नील का पौधा, विष्णु, पीपल का पेड़, शिव, कुबेर; -मती-(स्त्री.) स्त्रियों के लिये आदर-सूचक शब्द, राधा, लक्ष्मी; -मय-(वि., पुं.) श्रीयुक्त, विष्णु; -मलापहा-(स्त्री.) तवाकू; -महिमन्-(पुं.) शिव, महादेव; -मान्-(वि., पुं.) श्रीयुक्त, धनवान्; -माल-(पुं.) पश्चिम भारत के वैश्यों की एक जाति; -माला-(स्त्री.) गले में पहनने का एक आमूषण; -मुख-(पुं.) एक संवत्सर का नाम, सुन्दर मुख; (वि.) सुन्दर; -मूर्ति-(स्त्री.) विष्णु की प्रतिमा; -युक्त-(वि.) श्रीमान्, शोभा-सम्पन्न; (पुं.) एक आदरसूचक शब्द जो बड़े आदमियों के नाम के पहले लगाया जाता है; -युत्-(वि., पुं.) श्रीयुक्त; -रंग-(पुं.) लक्ष्मीपति, विष्णु, ताल

का एक भेद; -रमण-(पुं.) विष्णु, संगीत में एक संकर राग का नाम; -राग-(पुं.) संगीत के मुख्य ६ रागों में से एक राग; -रूपा-(स्त्री.) राधा; -लाभ-(पुं.) धन-लाभ, सौभाग्य, वृद्धि; -वंत-(वि.) सम्पत्ति शाली, वनाढ्य; -वत्स-(पुं.) विष्णु के वक्षस्थल पर का अंगुष्ठ-प्रमाण चिह्न जो भृगु के चरण-प्रहार से बना हुआ माना जाता है; -वद-(वि.) भावी शुभ कहनेवाला; -वर्धन-(पुं.) शिव, एक राग का नाम; -वल्ली-(स्त्री.) एक प्रकार की लता जिसका व्यवहार औषधों में होता है; -वास, -वासक-(पुं.) तारपीन का तेल, पद्म, कमल, विष्णु, शिव, देवदारु, चन्दन, गुग्गुलु, धूप; -विद्या-(स्त्री.) त्रिपुरसुन्दरी नाम की एक महाविद्या; -वृक्ष-(पुं.) अश्वत्थ, पीपल, वित्त्व-वृक्ष; -वृद्धि-(स्त्री.) धन-धान्य की वृद्धि; -सहोदर-(पुं.) चन्द्रमा; -स्वरूपिणी-(स्त्री.) राधा; -हृत-(वि.) निस्तेज, शोभा-रहित; -हरा-(स्त्री.) राधा; -हर्ष-(पुं.) विष्णु, नारायण, संस्कृत के 'नैषधीय चरितम्' महाकाव्य के प्रणेता। श्रुत-(सं. पुं.) कालिन्दी के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम; (वि.) सुना हुआ, ज्ञात, प्रसिद्ध; -कीर्ति-(पुं.) अर्जुन के एक पुत्र का नाम जो द्रौपदी से उत्पन्न थे; (वि.) कीर्तियुक्त; -देव-(पुं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम; -देवी-(स्त्री.) सरस्वती, वासुकि की वहिन का नाम; -पूर्व-(वि.) जो पहले सुना गया हो; -शील-(वि.) पण्डित और सदाचारी; -सेन-(पुं.) जनमेजय के पिता का नाम; -सेना-(स्त्री.) श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम। श्रुतार्थ-(सं. पुं.) वह वात जो सुनने के साथ ही समझ में आ जाय। श्रुति-(सं. स्त्री.) वेद, कर्ण, कान, सुनी हुई वात, वार्ता, श्रवण नक्षत्र, जनश्रुति, ध्वनि, शब्द, अनुप्रास का एक भेद, त्रिभुज के समकोण के सामने की भुजा, अभिमान, नाम, विद्या, विद्वत्ता; -कट-(पुं.) तपस्या, प्रायश्चित्त; -कटु-(पुं.) कठोर या कर्कराश शब्द, काव्य में ऐसे शब्दों का व्यवहार; (वि.) सुनने में कठोर; -कथित-(वि.) वेदोक्त; -तत्पर-(वि.) वेदाम्यास में लीन; -धर-(वि., पुं.) (वह मनुष्य) जिसको ज्ञानोकारि सुनते ही स्मरण हो जाता हो;

-पय-(पुं.) श्रवणेंद्रिय, वेद-विहित पय; -भाल-(पुं.) ब्रह्मा; -मार्ग, -मंडल-(पुं.) कर्ण, कान; -मुख-(पुं.) ब्रह्मा; -वर्जित-(वि.) वधिर, वाहिरा; -वेध-(पुं.) कर्णवेध, कन-छेदन, -सागर-(पुं.) विष्णु।

श्रुत्यनुप्रास-(सं. पुं.) अनुप्रास का वह भेद जहाँ एक ही स्थान से या एक-से उच्चारण होनेवाले व्यंजन अक्षर अनेक बार प्रयोग किये जायें।

श्रुवा-(सं. स्त्री.) देखें 'स्रुवा'।

श्रुयमाण-(सं. वि.) जो सुना जाय।

श्रीढी-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का पहाड़ जिसका विवरण लीलावती में लिखा है।

श्रेणि-(सं. स्त्री.) पंक्ति, अवली, परम्परा, शृंखला, मण्डली, समूह, दल, सेना, सिकड़ी, पानी भरने का डोल, सीढ़ी, किसी वस्तु का ऊपरी भाग; -का-(वि.) तं, खेमा; -वद्ध-(पुं.) क्रम-वद्ध; -मत्-(पुं.) सेनापति।

श्रेणी-(सं. स्त्री.) देखें 'श्रेणि'; -कृत-(वि.) पंक्ति में सजा हुआ; -धर्म-(पुं.) किसी समुदाय की रीति; -वद्ध-(वि.) क्रमवद्ध।

श्रेय-(सं. पुं.) सामवेद, धर्म, पुण्य, सदाचार, मुक्ति, चतुर्वर्ग-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कल्याण; (वि.) अधिक अच्छा, यश तथा कल्याण देनेवाला, श्रेष्ठ, उत्तम।

श्रेयस्-(सं. पुं.) देखें श्रेय; -कर-(वि.) मंगलकारी, शुभ फल देनेवाला; -करी-(स्त्री.) हरीतकी, हर; -काम-(पुं.) मंगल चाहनेवाला।

श्रेयोमय-(सं. वि.) मंगलमय, शुभ।

श्रेष्ठ-(सं. पुं.) गाय का दूध, कुबेर, राजा, ब्राह्मण, विष्णु, महादेव; (वि.) प्रशस्त, उत्तम, ज्येष्ठ, बड़ा, वृद्ध, कल्याणप्रद, पूज्य, उत्कृष्ट, गुत्य; -तः-(अव्य.) उत्तम रूप से; -तम-(वि.) सब से श्रेष्ठ; -तर-(वि.) जो दो व्यक्तियों या पदार्थों में श्रेष्ठ हो; -ता-(स्त्री.) विशिष्टता, प्रधानता, उत्तमता, बड़ाई; -लवण-(पुं.) रोषा नमक; -वृक्ष-(पुं.) वरण वृक्ष।

श्रेष्ठा-(सं. स्त्री.) स्थानपतिनी, दिव्या।

श्रेष्ठी-(सं. पुं.) प्रतिष्ठित व्यवसायी, सेठ, साहूकार।

श्रीण-(सं. पुं.) पं, पंज।

श्रीणि-(सं. स्त्री.) कर्णदेव, कर्ण, निष्ण, चूतड़, मार्ग, पय; -रूपाद-(पुं.)

जंघास्थि; -विच-(पुं.) करघनी ;
 -सूत्र-(पुं.) तलवार लटकाने का
 परतला, कमर की करघनी ।
 श्रोणी-(सं. स्त्री.) कटि, कमर, नितम्ब,
 चूतड़ ।
 श्रोत-(सं. पुं.) श्रवणेंद्रिय, कान;
 -व्यव्यक्-(वि.) सुनने योग्य ।
 श्रोता-(सं. पुं.) सुननेवाला, कथा आदि
 सुननेवाला ।
 श्रोत्र-(सं. पुं.) कर्ण, कान, वेदज्ञान;
 -ज्ञ-(वि.) श्रवण-पटु; -मूल-(पुं.)
 कर्णमूल; -हीन-(वि.) बहिरा ।
 श्रोत्रिय-(सं. पुं.) वह ब्राह्मण जिसने
 वेद का अध्ययन किया हो ।
 श्रोत्री-(हि. पुं.) श्रोत्रिय ।
 श्रोत-(हि. पुं.) देखें 'शोण' ।
 श्रोनिस्त-(हि. पुं.) देखें 'शोणित' ।
 श्रौत-(सं. वि.) श्रुति-संबंधी, श्रवण-
 संबंधी, जो वेद के अनुसार हो, यज्ञ-
 संबंधी; (पुं.)तीन प्रकार की अग्नियाँ;
 यथा-गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिण,
 वेद-विहित धर्म; यथा-दान, अग्निहोत्र
 और यज्ञ; -श्रव-(पुं.) शिशुपाल का
 एक नाम; -सूत्र-(पुं.) वे सूत्र जिनका
 विधान यज्ञादि में होता है ।
 श्रौत्रजन्म-(सं. पुं.) द्विजों का उपनयन-
 संस्कार ।
 श्लक्ष्ण-(सं. वि.) अल्प, थोड़ा, सूक्ष्म,
 चिकना, मनोहर; -ता-(स्त्री.)
 सूक्ष्मता, चिकनापन, सुन्दरता ।
 श्लथ-(सं. वि.) शिथिल, ढीला, दुर्बल,
 अशक्त, मन्द, धीमा, जो बंधा न हो ।
 श्लाघन-(सं. वि.) अपनी प्रशंसा करने-
 वाला; (पुं.) डींग हाँकना ।
 श्लाघनीय-(सं. वि.) प्रशंसनीय, श्रेष्ठ,
 उत्तम ।
 श्लाघनीयता-(सं. स्त्री.) श्लाघा, खुशामद ।
 श्लाघा-(सं. स्त्री.) प्रशंसा, स्तुति, बड़ाई ।
 श्लाघित-(सं. वि.) प्रशंसित ।
 श्लाघ्य-(सं. वि.) प्रशंसनीय, सराहने
 योग्य, श्रेष्ठ, उत्तम; -ता-(स्त्री.) श्लाघा ।
 श्लिष्ट-(सं. वि.) (शब्द) जिसका दो या अनेक
 अर्थ हों, मिला हुआ, जुटा हुआ, चिपका
 हुआ, आलिंगित; -रूपक-(पुं.) वह
 अलंकार जिसमें श्लेष के द्वारा रूपका-
 लंकार होता है ।
 श्लिष्टाक्षेप-(सं. पुं.) वह अलंकार जिसमें
 श्लिष्ट पदों के प्रयोग से आक्षेप होता है ।
 श्लिष्टि-(सं. स्त्री.) जोड़, मिलाना, आलिंगन ।
 श्लिष्टोक्ति-(सं. स्त्री.) श्लेषयुक्त वाक्य

या कथन ।
 श्लोपद-(सं. पुं.) फीलपाँव नामक रोग ।
 श्लोल-(सं. वि.) शुभ, मंगलदायक, उत्तम ।
 श्लेष-(सं. पुं.) संयोग, मिलान, जोड़,
 आलिंगन, वह अलंकार जिसमें दो या
 अनेक अर्थवाले शब्द हों अथवा वे अनेक
 अर्थों में प्रयुक्त हुए हों; -क-(वि.)
 जोड़नेवाला, मिलानेवाला; -ण-(पुं.)
 संयुक्त करना, मिलाना, आलिंगन ।
 श्लेषा-(सं. स्त्री.) आलिंगन, भेंट ।
 श्लेषोपमा-(सं. स्त्री.) वह अलंकार
 जिसमें ऐसे श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग
 होता है जिनके अर्थ उपमान और उपमेय
 दोनों पर घटते हैं ।
 श्लेषमल-(सं. पुं.) लिसोड़ा ।
 श्लेषमा-(सं. पुं.) कफ ।
 श्लेषिक-(सं. वि.) श्लेषमा-सम्बन्धी ।
 श्लोक-(सं. पुं.) पद्य, कविता, अनुष्टुप्
 छन्द, यश, प्रसिद्धि, कीर्ति, शब्द, ध्वनि,
 स्तुति, प्रशंसा, पुकार, आह्वान; -कृत-
 (पुं.) श्लोक बनानेवाला; -त्व-
 (पुं.) श्लोक का भाव ।
 श्वक-(सं. पुं.) बृक, भेड़िया ।
 श्वक्रीडी-(सं. पुं.) कुत्तों के साथ
 खेलनेवाला ।
 श्वजीविका-(सं. स्त्री.) दासत्व-वृत्ति ।
 श्वन्-(सं. पुं.) कुक्कुर, कुत्ता ।
 श्वपच-(सं. पुं.) चाण्डाल, डोम, कुत्ते का,
 मांस खानेवाला मनुष्य ।
 श्वपति-(सं. पुं.) किरात-वेपथारी रुद्र
 का अनुचर ।
 श्वपाक-(सं. पुं.) चाण्डाल, व्याध ।
 श्वफल-(सं. पुं.) विजौरा नीबू ।
 श्वफलक-(सं. पुं.) विष्णुपुत्र, अक्रूर के पिता ।
 श्वभीरु-(सं. पुं.) शृगाल, सियार ।
 श्वभ्र-(सं. पुं.) एक नरक का नाम,
 दरार, छेद ।
 श्वशुर-(सं. पुं.) पति या पत्नी का पिता,
 ससुर, पूज्य व्यक्ति ।
 श्वश्रू-(सं. स्त्री.) पति या पत्नी की
 माता, सास ।
 श्वसन-(सं. पुं.) साँस लेना, हाँफना,
 आह भरना, मैनफल, मदन वृक्ष ।
 श्वसनावान-(सं. पुं.) सर्प, साँप ।
 श्वस्तन-(सं. पुं.) आनेवाला दूसरा दिन ।
 श्वान-(सं. पुं.) कुक्कुर, कुत्ता, छप्पय
 छन्द का एक भेद ।
 श्वास-(सं. पुं.) प्राणवायु, साँस, दम,
 दमे का रोग, जल्दी-जल्दी साँस लेना,
 हाँफना; -काष्ठ-(पुं.) दमा, खाँसी;

-रोध-(पुं.) दम घुटना ।
 श्वासा-(हि. स्त्री.) साँस, दम, प्राण ।
 श्वासोच्छ्वास-(सं. पुं.) वेग से साँस
 खींचना और बाहर निकालना ।
 श्वेत-(सं. पुं.) चाँदी, सफेद रंग, कौड़ी,
 शंख, सफेद जीरा, सफेद घोड़ा, सफेद
 बराह, एक द्वीप का नाम, सफेद
 बादल; (वि.) सफेद, उजला; -कंद-
 (पुं.) प्याज; -कुंजर-(पुं.) सफेद हाथी,
 ऐरावत; -कुण्ड-(पुं.) सफेद दागवाला
 कोढ़; -कृष्ण-(वि.) सफेद और काला;
 (पुं.) एक बात और दूसरी बात;
 -केतु-(पुं.) उद्दालक ऋषि के पुत्र का
 नाम; -केश-(पुं.) सफेद बाल; -गज-
 (पुं.) ऐरावत हाथी; -गरुत्-(पुं.)
 राजहंस; -च्छद-(पुं.) वनतुलसी, हंस;
 -ता-(स्त्री.) सफेदी; -द्युति-(पुं.)
 चन्द्रमा; -द्वीप-(पुं.) पुराणानुसार
 एक द्वीप का नाम; -धातु-(स्त्री.)
 खड़िया; -धामा-(पुं.) चन्द्रमा,
 कपूर; -नील-(पुं.) बादल; -पक्ष-
 (पुं.) हंस; -प्रदर-(पुं.) वह रोग
 जिसमें स्त्रियों की योनि से सफेद स्राव
 होता है; -फला-(स्त्री.) सफेद भंटा;
 -भानु-(पुं.) चन्द्रमा; -मयूख-(पुं.)
 चन्द्रमा; -रत्न-(पुं.) स्फटिक;
 -रश्मि-(पुं.) चन्द्रमा; -रस-(पुं.)
 मक्खन; -बाराह-(पुं.) ब्रह्मा की
 सृष्टि के आदि-युग का प्रथम कल्प;
 -वाहन-(पुं.) चन्द्रमा, अर्जुन ।
 श्वेतांबर-(सं. पुं.) सफेद वस्त्र, जैनों के
 एक सम्प्रदाय का नाम ।
 श्वेता-(सं. स्त्री.) कौड़ी, वंशलोचन,
 फिटकिरी, चीनी, शक्कर, मिस्त्री, सफेद
 घुंघची; (वि. स्त्री.) सफेद रंगवाली ।
 श्वेताद्रि-(सं. पुं.) कैलास पर्वत ।
 श्वेताश्वतर-(सं. पुं.) कृष्ण यजुर्वेद की
 एक शाखा ।

ष

ष संस्कृत या हिन्दी वर्णमाला के
 व्यंजन वर्णों में इकतीसवाँ
 अक्षर, (इसका उच्चारण-स्थान मूर्धा
 है। इसी से यह मूर्धन्थ कहलाता है);
 (सं. पुं.) केश, ध्वंस, नाश, अवशेष,
 निर्वाण, मुक्ति, स्वर्ग; (वि.) उत्तम,
 श्रेष्ठ, सुन्दर ।
 षंजन-(सं. पुं.) आलिंगन, समागम ।
 षंड-(सं. पुं.) वृषभ, माँड़, क्लीव, नपुंसक,

हिजड़ा, घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।
 बंदता—(सं. स्त्री.) नपुंसकता, बलीवता ।
 बंदत्व—(सं. पुं.) हिजड़ापन ।
 बंड(ड)योनि—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जो पुरुष-समागम के अयोग्य हो ।
 बट्—(सं. वि.) गिनती में छः; (पुं.) ६ की संख्या, पाड़व जाति का एक राग ।
 बट्कर्म—(सं. पुं.) ब्रह्मणों के छः प्रकार के कर्म, यथा—यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह ।
 बट्कला—(सं. स्त्री.) संगीत में ब्रह्मताल के चार भेदों में से एक ।
 बट्कार—(सं. पुं.) बट् शब्द का उच्चारण ।
 बट्कोण—(सं. पुं.) छः कोनों की आकृति, वज्र, हीरा; (वि.) छपहला ।
 बट्चक्र—(सं. पुं.) हठ-योग के अनुसार कुडलिनी के ऊपर के ६ चक्र, पड्यंत्र ।
 बट्चरण—(सं. पुं.) भ्रमर, भौंरा, खटमल; (वि.) छः पैरोंवाला ।
 बट्ताल—(सं. पुं.) मृदंग का एक ताल जो आठ मात्राओं का होता है ।
 बट्तिता—(सं. स्त्री.) माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ।
 बट्पद—(सं. वि.) छः पैरोंवाला; -प्रिय—(पुं.) पद्म, कमल ।
 बट्पदा—(सं. स्त्री.) भ्रमरी, भौंरी, खटमल ।
 बट्पदी—(सं. वि. स्त्री.) छः परोंवाली; (स्त्री.) भ्रमरी, भौंरी, छप्पय नामक छन्द ।
 बट्पाद—(सं. पुं.) छः पैरोंवाला एक प्रकार का कौड़ा ।
 बट्प्रज्ञ—(सं. पुं.) व्यभिचारी, लंपट ।
 बट्मुख—(सं. पुं.) कार्तिकेय ।
 बट्स—(सं. पुं.) छः प्रकार का रस या स्वाद, पड़रस ।
 बट्सराग—(सं. पुं.) संगीत के छः राग, यथा—भैरव, मल्लार, श्री, हिंडोल, मालकोश और दीपक-बखेड़ा ।
 बट्सरिपु—(सं. पुं.) देखें 'पड़रिपु' ।
 बट्वांग—(सं. पुं.) खट्वांग नामक राजपि जिनको दो घड़ी की साधना से मुक्ति मिली थी ।
 बट्शास्त्र—(सं. पुं.) हिन्दुओं के छः दर्शन, षड्दर्शन ।
 बट्शास्त्री—(सं. पुं.) छः दर्शनों का ज्ञाता ।
 बडंग—(सं. पुं.) शरीर के छः अवयव, यथा—दो जांघें, दो बाहुएँ, मस्तक और छाती, वेद के अंगमूत छः शास्त्र, यथा—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द, तन्मानुसार हृदयादि षड्वय, यथा—हृदय, मस्तक, शिरा,

कवच, नेत्र और करतल-पृष्ठ, छः प्रकार के योगांग, यथा—प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि ।
 बडंगी—(हिं. वि.) छः अंगोंवाला ।
 बडंश—(सं. पुं.) छः भागों में से एक भाग ।
 बडक्ष—(सं. वि.) छः आँखोंवाला ।
 बडक्षर—(सं. वि.) छः अक्षरों से युक्त ।
 बडग्नि—(सं. स्त्री.) कर्मकाण्ड के अनुसार छः प्रकार की अग्नियाँ, यथा—गाहपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, आवसथ्य, सभ्याग्नि और औपासनाग्नि ।
 बडस्व—(सं. पुं.) छः घोड़ों की गाड़ी या रथ ।
 बडल्ल—(सं. वि.) जिसमें छः कोने हों ।
 बडात्मा—(सं. पुं.) अग्नि ।
 बडानन—(सं. वि.) छः मुखोंवाला; (पुं.) कार्तिकेय ।
 बडग—(सं. पुं.) देखें 'पड़ग' ।
 बडगुण—(सं. पुं.) छः गुणों का समूह; यथा—ऐश्वर्य, ज्ञान, यज्ञ, श्री, वैराग्य और धर्म; (वि.) जिसमें छः गुण हों ।
 बडज—(सं. पुं.) संगीत के सात स्वरों में चौथा स्वर जो मयूर के स्वर से मिलता-जुलता माना जाता है ।
 बडदर्शन—(सं. पुं.) हिन्दुओं के छः दर्शन-शास्त्र; यथा—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त, मीमांसा और योग ।
 बडदर्शनी—(सं. पुं.) छः दर्शनों को जानने-वाला ज्ञानी ।
 बडभाव—(सं. पुं.) दर्शन के अनुसार छः पदार्थ; यथा—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय; ज्योतिष मत से छः भाव; यथा—लज्जित, गर्वित, क्षुब्ध, तृपित, मुदित और शोभित ।
 बडभुजा—(सं. स्त्री.) खरबूजा, दुर्गा की मूर्ति का भेद ।
 बड्यंत्र—(सं. पुं.) किसी मनुष्य के विरुद्ध गुप्त रीति से कोई अनिष्ट-कार्य करना, भौतरी चाल, कपटपूर्ण आयोजन, कुचक्र ।
 बडरस—(सं. पुं.) छः प्रकार का स्वाद या रस; यथा—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय ।
 बडरिपु—(सं. पुं.) काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य—ये छः मनोविकार ।
 बड्वक्त्र—(सं. पुं.) पडानन, कार्तिकेय ।
 बडवर्ग—(सं. पुं.) छः वस्तुओं का समूह ।
 बडविकार—(सं. पुं.) प्राणों के छः विकार; यथा—उत्पत्ति, वृद्धि, बाल्यावस्था, प्रौढ़ता, वृद्धता और मृत्यु ।
 बडबिन्दु—(सं. पुं.) एक प्रकार का फोड़ा जिसको पीठ पर छः बिन्दियाँ होती हैं ।

षण्मास—(सं. पुं.) छः महीना, आषाढ वर्ष ।
 षण्मासिक—(सं. वि.) छः महीनों में होने-वाला, अर्ध-वार्षिक ।
 षण्मुख—(सं. पुं.) पडानन, कार्तिकेय ।
 षष्ट—(सं. वि.) छः संख्या का, साठवाँ (समास में) ।
 षष्टि—(सं. वि., स्त्री.) साठ (की संख्या) ।
 षष्टिक—(सं. पुं.) साठी घान ।
 षष्टिका—(सं. स्त्री.) साठी घान ।
 षष्टितंत्र—(सं. पुं.) सांख्य शास्त्र जिसमें साठ पदार्थों का विचार किया गया है ।
 षष्टिविद्या—(सं. स्त्री.) सांख्य विद्या ।
 षष्ठ—(सं. वि.) जिसका स्थान पाँच के उपरान्त हो, छठा ।
 षष्ठक—(सं. वि.) छठा ।
 षष्ठांश—(सं. पुं.) छठा भाग ।
 षष्ठिका—(सं. स्त्री.) पष्ठी देवी ।
 षष्ठी—(सं. स्त्री.) किसी मास की शुक्ल या कृष्ण पक्ष की छठी तिथि, काल्यायनी, सोलह मात्राओं में से एक जो छोटे बालकों का प्रतिपालन करती है, दुर्गा, व्याकरण में संवत्-कारक की विभक्ति ।
 षष्ठीप्रिय—(सं. पुं.) स्कन्द, कार्तिकेय ।
 षडव—(सं. पुं.) एक राग का नाम ।
 षण्मातुर—(सं. पुं.) कार्तिकेय जो कृत्तिकादि छः रित्तियों का स्तनपान करके पले थे ।
 षण्मासिक—(सं. वि.) छठवें महीने में होनेवाला, छमाही ।
 षादतर—(सं. पुं.) संगीत में वह वनावटी सप्तक जो मंद्र से नीचे का होता है ।
 षाष्ठ—(सं. वि.) पष्ठ, छठा ।
 षाष्ठिक—(सं. वि.) षष्ठी-संबंधी ।
 षुष्ठुपु—(सं. पुं.) गर्भ-विमोचन ।
 षोडश—(सं. वि.) सोलहवाँ; (पुं.) सोलह की संख्या ।
 षोडशकल—(सं. वि.) जिसमें सोलह अंश या कलाएँ हों ।
 षोडशकला—(सं. पुं., स्त्री.) चन्द्रमा, विष्णु की एक विराट् मूर्ति ।
 षोडशगण—(सं. पुं.) पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पंचभूत तथा मन का समूह ।
 षोडशदान—(सं. पुं.) श्राद्धादि के समय किये जानेवाले सोलह प्रकार के दान; यथा—भूमि, आनन, जन, वस्त्र, दीप, अन्न, ताम्बूल, द्रव्य, गन्ध, माना, फल, ज्य्या, खड़ाऊँ, गाय, मोना और चाँदी ।
 षोडशभुजन—(सं. पुं.) देखें 'षोडशभुचार' ।
 षोडशभुजा—(सं. स्त्री.) सोलह हापों-वाली दुर्गा ।

षोडशमातृका—(सं. स्त्री.) देवियाँ जो संख्यामें सोलह मानी गई हैं, यथा—गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, लक्ष्मी, शान्ति, पुष्टि, धृति, तुष्टि और आत्मदेवता ।
षोडशविधि—(सं. वि.) सोलह प्रकार का ।
षोडशशृंगार—(सं. पुं.) पूर्ण शृंगार जो सोलह अंगों का होता है ।
षोडशसंस्कार—(सं. पुं.) गर्भाधान से मृतक-कर्म तक के सोलह संस्कार जो द्विजातियों के लिये शास्त्र में कहे गये हैं ।
षोडशांशु—(सं. पुं.) शुक्र ग्रह ।
षोडशार—(सं. पुं.) वेदी के ऊपर बनाया जानेवाला चक्र विशेष ।
षोडशिका—(सं. स्त्री.) एक प्राचीन परिमाण जो प्रायः सोलह माशों का होता था ।
षोडशी—(सं. वि. स्त्री.) सोलह वर्ष की स्त्री, नवयौवना स्त्री, दस महाविद्याओं में से एक ।
षोडशोपचार—(सं. पुं.) पूजन के पूर्ण अंग जो सोलह हैं, यथा—आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, यज्ञोपवीत, स्नान, वसन, आभरण, गन्ध, पुष्प, घूप, दीप, चन्दन और नैवेद्य ।
षठीवन—(सं. पुं.) थूकना ।
षठीवी—(सं. स्त्री.) थूक ।
षट्पत—(सं. वि.) थूका हुआ ।

स

स—हिन्दी वर्णमाला का बत्तीसवाँ व्यंजन वर्ण, इसका उच्चारण-स्थान दन्त है; (सं. पुं.) ईश्वर, शिव, विष्णु, सर्प, पक्षी, चन्द्रमा, वायु, जीवात्मा, कान्ति, ज्ञान, चिन्ता, संगीत में षड्ज स्वर का सूचक अक्षर; (उप.) सह, समान, वही आदि अर्थों में उपसर्ग की तरह भी प्रयुक्त होता है ।
सं—(सं. उप.) इसका व्यवहार संगति, समानता, शोभा आदि सूचित करने के लिये होता है; यथा—संताप, संयोग आदि ।
संज्ञतना—(हि. क्रि. स.) लीपना, पोतना, संचय करना, सहेजना ।
संज्ञपना—(हि. क्रि. स.) देखें 'सौपना' ।
संज्ञ—(हि. स्त्री.) देखें 'शंका' ।
संकट—(सं. वि.) संकीर्ण, घनीभूत, तंग, एकत्रित, अमेघ; (पुं.) विपत्ति, दुःख, कष्ट; -चतुर्थी—(स्त्री.) श्रावण कृष्णा

चतुर्थी; -चौथ—(हि. स्त्री.) माघ कृष्णा चतुर्थी ।
संकटा—(सं. स्त्री.) एक देवी का नाम, ज्योतिष के अनुसार एक योगिनी का नाम ।
संकत—(हि. पुं.) देखें 'संकेत' ।
संकना—(हि. क्रि. अ.) शंका करना, सन्देह करना ।
संकर—(सं. पुं.) मिश्रित होने का भाव, मिश्रण, दोगला, वर्णसंकर जाति; (हि. पुं.) देखें 'शंकर' ।
संकरता—(सं. स्त्री.) मिलावट, वर्णसंकरता ।
संकर-घरनी—(हि. स्त्री.) पार्वती ।
संकरा—(हि. वि.) जो अधिक चौड़ा न हो, तंग; (पुं.) कष्ट, आपत्ति ।
संकराना—(हि. क्रि. स.) संकुचित करना, कष्ट देना ।
संकर्षण—(सं. पुं.) आकर्षण, खिंचाव ।
संकल—(हि. स्त्री.) सिकड़ी ।
संकलन—(सं. पुं.) संग्रह, ढेर, एकत्रीकरण, अच्छे विषयों को चुनकर ग्रंथ बनाना ।
संकलित—(सं. वि.) संकलन किया हुआ ।
संकल्प—(सं. पुं.) विचार, दृढ़ निश्चय या उद्देश्य ।
संकल्पना, संकल्पना—(हि. क्रि. अ., स.) किसी बात का दृढ़ निश्चय करना, धार्मिक उद्देश्य से कुछ दान देना, विचार करना ।
संकष्ट—(हि. पुं.) संकट ।
संक्राना—(हि. क्रि. अ.) शंका करना, डरना ।
संकार—(हि. पुं.) संकेत ।
संकारना—(हि. क्रि. स.) संकेत करना ।
संकाश—(सं. वि., अव्य.) सदृश, समीप, निकट ।
संकीर्ण—(सं. पुं.) संकट, विपत्ति, वह राग या रागिनी जो दो दूसरे राग या रागिनियों के मेल से बनी हो; (वि.) अपवित्र, संकुचित, संकरा, तुच्छ, नीच, शूद्र ।
संकीर्णता—(सं. स्त्री.) क्षुद्रता, ओछापन, तंगी ।
संकीर्तन—(सं. पुं.) गाकर भगवद्-भजन करना ।
संकुचन—(सं. पुं.) सिकुड़ना ।
संकुचित—(सं. वि.) सिकुड़ा या सिमटा हुआ ।
संकुल—(सं. पुं.) युद्ध, समूह, झुण्ड; (वि.) घना ।
संकुलता—(सं. स्त्री.) घनापन, परिपूर्णता ।
संकुलित—(सं. वि.) एकत्रित, इकट्ठा किया हुआ ।

संकेत—(सं. पुं.) इंगित, शृंगारपूर्ण चेष्टा, चिह्न ।
संकेतना—(हि. क्रि. स.) संकट में डालना ।
संकोच—(सं. पुं.) सिकुड़ना, सहमना, लज्जा, हिचक, कमी ।
संकोचन—(सं. पुं.) सिकुड़ने की क्रिया, हिचक, लज्जा ।
संकोचना—(हि. क्रि. अ., स.) संकुचित करना, संकोच करना ।
संकोचित—(सं. वि.) लज्जित ।
संकोची—(सं. वि., पुं.) संकोच या लज्जा करनेवाला, सिकुड़नेवाला ।
संकोपना—(हि. क्रि. अ.) क्रोध करना ।
संक्रन्द—(सं. पुं.) शक्र, इन्द्र ।
संक्रम—(सं. पुं.) प्राप्ति, संक्रान्ति, कठिनाता से आगे बढ़ने की क्रिया, सेतु, पुल, उपाय ।
संक्रमण—(सं. पुं.) संक्रांति, अतिक्रमण, गमन, घूमना-फिरना, सूर्य का एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करना ।
संक्रमणिका—(सं. स्त्री.) सीढ़ियों की पंक्ति ।
संक्रमित—(सं. वि.) दूसरी राशि में प्रविष्ट (सूर्य), स्थापित, प्रतिबिंबित ।
संक्रांत—(सं. वि.) युक्त, प्रविष्ट, संचारित, व्याप्त, प्रतिबिम्बित, एक राशि से दूसरी राशि में प्रविष्ट (सूर्य, ग्रह आदि) ।
संक्रांति—(सं. स्त्री.) संचार, गमन, सूर्य का एक राशि से दूसरी में जाना, व्याप्ति, प्रतिबिंब ।
संक्रामक—(सं. वि.) संसर्ग या छूत से फैलनेवाला (रोग, यथा-प्लेग, महामारी आदि) ।
संक्षय—(सं. पुं.) नाश, क्षय ।
संक्षिप्त—(सं. वि.) संक्षेप किया हुआ, अल्प, थोड़ा ।
संक्षिप्त-लिपि—(सं. स्त्री.) वह सांकेतिक लेखन-प्रणाली जिसमें विशेष ध्वनियों के लिए छोटे-छोटे चिह्न निरूपित रहते हैं ।
संक्षुब्ध—(सं. वि.) व्याकुल, घबड़ाया हुआ ।
संक्षेप—(सं. पुं.) थोड़े में बहुत बात कहना, कम करना, घटाना, छोटा रूप, सारांश ।
संक्षेपण—(सं. पुं.) संक्षेप करने की क्रिया ।
संक्षेपतः—(सं. अव्य.) संक्षेप में, थोड़े में ।
संक्षोभ—(सं. पुं.) चंचलता, गर्व, घमंड ।
संक्षेपतया—(सं. अव्य.) संक्षेप में, थोड़े में, सारांश के रूप में ।
संख—(हि. पुं.) देखें 'राख' ।
संखनारी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द ।
संखा—(हि. पुं.) चक्की के ऊपरी पाट में लगी हुई लकड़ी ।

संस्कार—(हि. पुं.) एक प्रकार का पक्षी।
संखिया—(हि. पुं.) एक प्रकार की बहुत विषैली उपघातु या पत्थर, इससे बनाया हुआ भस्म जो औषध में प्रयुक्त होता है।
संख्या—(सं. स्त्री.) गणना, गिनती, अंक;
—लिपि—(स्त्री.) लिखने की विशिष्ट प्रणाली जिसमें अक्षरों की जगह अंक लिखते हैं।

संख्यात—(सं. वि.) गिना हुआ।
संख्येय—(सं. वि.) जो गिना जा सके, गणनीय।

संग—(फा. पुं.) पत्थर, चट्टान;—मरमर,
—मर्मर—(पुं.) इमारतों में काम आने-
वाला चिकना, चमकीला और मूल्य-
वान् पत्थर।

संग—(सं. पुं.) साथ होना, संसर्ग, सहवास,
संबंध, मिलने की क्रिया; (हि. अव्य.)
साथ, सहित।

संगठन—(हि. पुं.) अलग-अलग शक्तियों,
लोगों, अंगों आदि को इस प्रकार एक
में मिलाना कि उनमें एकतावद्ध शक्ति
आ जाय, संघटन, ठोस व्यवस्था।

संगठित—(हि. वि.) संगठन किया हुआ।

संगत—(सं. पुं.) संगति, मैथुन, संसर्ग;
(हि. स्त्री.) गाने के साथ बाजा बजाना,
उदासी सावुओं का मठ; (वि.) उप-
युक्त, सामंजस्ययुक्त।

संगतरा—(हि. पुं.) एक प्रकार की मीठी
नारंगी, संतरा।

संगति—(सं. स्त्री.) संगम, मेल, संबंध,
उपयुक्तता, सामंजस्य।

संगतिया—(हि. पुं.) वह जो नाचने या
गानेवाले के साथ रहकर तबला, सारंगी
आदि बजाता है, साथी।

संगती—(हि. पुं.) देखें 'संगतिया'।

संगम—(सं. पुं.) दो नदियों का मिलन,
मिलाप, सम्मेलन।

संगल—(हि. पुं.) एक प्रकार का रेशम।

संगसो—(हि. स्त्री.) देखें 'सँझसी'।

संगाती—(हि. पुं.) साथी, संगी, मित्र,
दोस्त।

संगिनी—(सं. स्त्री.) मार्या, पत्नी, साथ
की सखी।

संगी—(हि. पुं.) एक प्रकार का रेशमी
कपड़ा।

संगी—(सं. पुं.) साथी, मित्र, दोस्त; (वि.)
साथ रहनेवाला, आसन्न, कामुक।

संगीत—(सं. पुं.) गाना, गायन, नृत्य आदि-
कलाएँ;—वैद्य-शास्त्र—(पुं.) संगीत-भवन;

—शास्त्र—(पुं.) संगीत-विद्या या कला।

संगीन—(फा. वि.) पत्थर का बना
हुआ, सख्त, मजबूत।

संगीनी—(फा. स्त्री.) मजबूती।

संगृहीत—(सं. वि.) संग्रह किया हुआ।

संगीतरा—(हि. पुं.) एक प्रकार की
नारंगी, संतरा।

संगोपन—(सं. पुं.) गुप्त रखना, छिपाना।

संगोपित—(सं. वि.) छिपाया हुआ।

संग्रह—(सं. पुं.) एकत्र करने की क्रिया,
वह ग्रन्थ जिसमें चुने हुए लेख आदि
एकत्र किये गये हों, संकलन, संयम,
जमघट, जमाव, समा, स्वीकार, स्त्री-
प्रसंग, सूची।

संग्रहण—(सं. पुं.) देखें 'संग्रह'।

संग्रहणी—(सं. स्त्री.) एक रोग जिसमें
भोजन किये हुये पदार्थ का पाचन नहीं
होता और वह अपक्व मल के रूप में
निकल जाता है।

संग्रहालय—(सं. पुं.) वह स्थान जहाँ प्राचीन
काल की वस्तुओं का संग्रह हो।

संग्रही—(सं. पुं.) संग्रह करनेवाला।

संग्रहीता—(सं. पुं.) देखें 'संग्रही'।

संग्राम—(सं. पुं.) युद्ध, लड़ाई।

संग्राही—(सं. पुं.) मल का अवरोध
करनेवाला पदार्थ।

संघ—(सं. पुं.) समुदाय, दल, समा, समाज।

संघटन—(सं. पुं.) संयोग, मेल, निर्माण,
रचना, संगठन।

संघटित—(सं. वि.) एकत्र किया हुआ,
व्यवस्थित, संगठित।

संघर्ष—(सं. पुं.) रगड़, घर्षण, मर्दन,
स्पर्धा।

संघर्षी—(सं. वि.) संघर्ष करनेवाला।

संघात—(सं. पुं.) समूह, जमाव, आघात,
चोट, एक नरक का नाम।

संघातक—(सं. वि.) प्राण लेनेवाला।

संघाती—(सं. पुं.) प्राणनाशक।

संघाती, संघाती—(हि. पुं.) साथी, दोस्त।

संचय—(सं. पुं.) संग्रह, समूह, ढेर, बहु-
तायत, एकत्र करना।

संचयी—(सं. वि.) संचय करनेवाला,
कृपण, कंजूस।

संचर, संचरण—(सं. पुं.) गमन, चलना,
संक्रमण।

संचरित—(सं. वि.) प्रस्थित, प्रचलित।

संचल—(सं. पुं.) सान्तर नमक।

संचलन—(सं. पुं.) हिलना, डोलना,
चलना, फिरना, कांपना।

संचार—(सं. पुं.) गमन, चलना, रोग का
संक्रमण, फैलने की क्रिया या भाव,

उत्तेजन, कष्ट, विपत्ति, ग्रहों या नक्षत्रों
का एक राशि से दूसरी राशि में जाना।

संचारक—(सं. पुं.) चलानेवाला, ले जाने-
वाला, संचार करनेवाला।

संचारण—(सं. पुं.) प्रसारण, फैलाव।

संचारिका—(सं. स्त्री.) कुटनी, दूती।

संचारित—(सं. वि.) चलाया या फैलाया
हुआ।

संचारी—(सं. पुं.) संगीत-शास्त्र के अनु-
सार गीत के चार चरणों में से तीसरा
चरण, वायु, हवा, साहित्य में वे भाव जो
मुख्य भाव की पुष्टि करते हैं; (वि.)
संचार करनेवाला, संक्रामक।

संचाल—(सं. पुं.) कंपन, चलना।

संचालक—(सं. वि., पुं.) गति देने या
चलानेवाला।

संचालन—(सं. पुं.) चलाना, गति देना।

संचालित—(सं. वि.) चलाया हुआ।

संचित—(सं. वि.) संचय किया हुआ,
ढेर लगाया हुआ।

संजन—(सं. पुं.) बन्वन, संघटन।

संजय—(सं. पुं.) घृतराष्ट्र के एक मंत्री
का नाम; (स्त्री.) विजय।

संजल्प—(सं. पुं.) वार्तालाप, बातचीत।

संजात—(सं. वि.) प्राप्त, उत्पन्न।

संजीव—(सं. पुं.) पुनः जीवित करनेवाला।

संजीवनी—(सं. स्त्री.) जीवनदायिनी औषधि,
मरे हुए लोगों को जिलाने की विद्या।

संजुता—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छंद।

संजोग—(हि. पुं.) देखें 'संयोग'।

संजोगी—(हि. पुं.) मार्या के साथ रहने-
वाला पुरुष।

संजोना—(हि. क्रि. न.) सुसज्जित करना,
सजाना।

संजोह—(हि. पुं.) लकड़ी का वह चौपटा
जिसको जुलाह बुनते समय छत्र से
लटका देते हैं।

संज्ञ—(सं. वि.) जो सब विषयों को अच्छी
तरह जानता हो।

संज्ञा—(सं. स्त्री.) चेतना, ज्ञान, बुद्धि,
संकेत, गायत्री, व्याकरण में वह शब्द
जिससे किसी वस्तु का बोध होता है,
नाम, नृप की पत्नी का नाम।

संज्ञान—(सं. पुं.) बोध, ज्ञान, संज्ञेय।

संज्ञापन—(सं. पुं.) विज्ञापन, कथन।

संज्ञाहीन—(सं. वि.) अज्ञेय, वैमृग्य।

संज्ञवर—(सं. पुं.) अधिक ताप या उच्च।

संज्ञवाती—(हि. स्त्री.) मध्या के समय
जानने का शौच, मध्या के समय गाया
जानेवाला गीत; (वि.) मध्या-नयंपी।

संज्ञा—(हि.स्त्री.) संध्या, सूर्यास्त का समय ।
 संधिया—(हि.पुं.) संध्या का भोजन ।
 सेंठ—(हि.पुं.) चुप्पी, शठ, धूर्त, नीच ।
 सेंड—(हि.पुं.) साँड़; —मुसंड—(वि.)
 हट्टा-कट्टा ।
 सेंडसा—(हि.पुं.) गरम लोहे को पकड़ने
 का लोहार का एक औजार ।
 सेंडसी—(हि.स्त्री.) छोटा सेंडसा ।
 सेंडा—(हि.वि.) हट्टपुष्ट ।
 सेंडास—(हि.पुं.) कुएँ की तरह का गहरा
 गड्ढा, शीचकूप ।
 संत—(सं.पुं.) साधु, धर्मात्मा, महात्मा ।
 संतति—(सं.स्त्री.) संतान, फैलाव,
 विस्तार, अविच्छिन्नता ।
 संतप्त—(सं.वि.) श्रान्त, थका हुआ,
 जला हुआ, दुःखी, पीड़ित ।
 संतरण—(सं.वि.) पार करनेवाला, तारक,
 नष्ट करनेवाला; (पुं.) पार करने की
 क्रिया ।
 संतरा—(हि.पुं.) बड़ी नारंगी ।
 संतरी—(हि.पुं.) पहरा देनेवाला सिपाही,
 द्वारपाल, पहरेदार ।
 संतर्जन—(सं.पुं.) डराना, धमकाना, भगाना ।
 संतर्पक—(सं.वि.) तृप्त करनेवाला ।
 संतर्पण—(सं.पुं.) तृप्त करना ।
 संतर्पित—(सं.वि.) तृप्त किया हुआ ।
 संतान—(सं.पुं.) कल्प वृक्ष, बाल-बच्चे,
 वंश, कुल, विस्तार, प्रबन्ध, व्याप्ति ।
 संतानिका—(सं.स्त्री.) छुरी या चाकू का
 फल, मलाई, साढ़ी ।
 संताप—(सं.पुं.) अग्नि या धूप का ताप,
 जलन, कष्ट, दुःख, दाह, रोग, ज्वर, शत्रु ।
 संतापन—(सं.पुं.) कामदेव के पाँच बाणों
 में से एक, कष्ट देना; (वि.) कष्ट
 देनेवाला ।
 संतापी—(सं.वि.) दुःख या सन्ताप
 देनेवाला ।
 संतुष्ट—(सं.वि.) जिसकी तृप्ति हो गई
 हो, तृप्त ।
 संतोष—(सं.पुं.) चित्त की वह वृत्ति
 जिसमें मनुष्य अपनी वर्तमान दशा में
 सुख का अनुभव करता है, शान्ति, तृप्ति,
 प्रसन्नता, हर्ष ।
 संतोषण—(सं.पुं.) संतोष, तृप्ति, संतुष्ट
 करने की क्रिया ।
 संतोषणीय—(सं.वि.) संतुष्ट करने योग्य ।
 संतोषना—(हि.क्रि.सं.) संतोष दिलाना,
 संतुष्ट करना, प्रसन्न होना ।
 संतोषी—(सं.वि.) संतुष्ट ।
 संदंश—(सं.पुं.) सेंडसा, सेंडसी ।

संदर्प—(सं.पुं.) अभिमान ।
 संदर्भ—(सं.पुं.) रचना, प्रबंध, संग्रह,
 विस्तार, निबंध, ग्रंथ की टीका,
 व्याख्यात्मक पूर्व-संबंध ।
 संदर्शन—(सं.पुं.) अच्छी तरह देखने
 की क्रिया ।
 संदल—(अ.पुं.) चंदन ।
 संदली—(अ.वि.) चंदन का ।
 संदान—(सं.पुं.) श्रृंखला, सिकड़ी, रस्सी ।
 संदिग्ध—(सं.वि.) संदेहयुक्त; (पुं.) एक
 प्रकार का व्यंग्य ।
 संदिग्धत्व—(सं.पुं.) सन्देह, भाव-अभि-
 व्यक्त का वह दोष जिसमें किसी उचित
 का ठीक-ठीक अर्थ प्रकट नहीं होता ।
 संदिग्धमति—(सं.वि.) संदेह करनेवाला ।
 संदिग्धार्थ—(सं.पुं.) वह विषय जो
 विवादास्पद हो ।
 संदिष्ट—(सं.पुं.) वार्तालाप, समाचार;
 (वि.) कथित, कहा हुआ ।
 संदीपक—(सं.वि.) उद्दीपक, उद्दीपन
 करनेवाला ।
 संदीपन—(सं.पुं.) उद्दीपित करने की क्रिया ।
 संदीपनी—(सं.स्त्री.) संगीत में पंचम
 स्वर की चार श्रुतियों में से तीसरी श्रुति ।
 संदीपित—(सं.वि.) प्रज्वलित, जलाया
 हुआ ।
 संदूक—(अ.पुं.) पेटी, बक्स ।
 संदेश—(सं.पुं.) संवाद, समाचार, एक
 प्रकार की बंगला मिठाई ।
 संदेशहर—(सं.पुं.) समाचार ले जानेवाला ।
 सं (सं) देसा—(हि.पुं.) समाचार ।
 संदेह—(सं.पुं.) संशय, द्विधाभाव, शक,
 अनिश्चय ।
 संदोल—(सं.वि.) सुंदर हिंडोला, कर्ण-
 फूल नामक आम्रपुष्प ।
 संदोह—(सं.पुं.) समूह, झुण्ड ।
 संधा—(सं.स्त्री.) स्थिति, प्रतिज्ञा, अनु-
 सन्धान, मिलन ।
 संधान—(सं.पुं.) संघटन, योजन, अन्वेषण,
 खोज, सन्धि, मेल ।
 संधानिका—(सं.स्त्री.) एक प्रकार का
 आम का अचार ।
 संधानी—(सं.स्त्री.) मदिरा बनाने का
 स्थान, संयोजन, बंधन, प्राप्ति, पालन ।
 संधि—(सं.स्त्री.) आपस का मेल, एक राजा
 का विपक्षी राजा के साथ विशिष्ट शर्तों
 पर मैत्री-भाव स्थापित करना, शरीर
 की हड्डियों का जोड़, संयोग, संघटन,
 भेद, साधन, संयुक्त शब्दों में दो वर्णों
 का एक में मिलना ।

संधिचौर—(सं.पुं.) संध लगाकर चोरी
 करनेवाला ।
 संधिजीवक—(सं.पुं.) कुटना ।
 संधितस्कर—(सं.पुं.) संध लगाकर
 चोरी करनेवाला ।
 संधिनी—(सं.स्त्री.) गामिन गाय, वह
 गाय जो बछ्खे के बिना दूध देती हो ।
 संधिपूजा—(सं.स्त्री.) देवी की वह पूजा
 जो महाष्टमी और महानवमी की सन्धि
 में होती है ।
 संधि-बंधन—(सं.पुं.) शिरा, नस ।
 संधिभंग—(सं.पुं.) शरीर-के किसी जोड़
 का टूटना ।
 संधिराग—(सं.पुं.) सिन्दूर ।
 संधिवेला—(सं.स्त्री.) संध्या का समय ।
 संध्या—(सं.स्त्री.) दिन के अवसान का
 समय, साँझ, उपासना जो दिन के
 तीनों संधि-कालों में (सुबह, दोपहर और
 शाम) की जाती है; —काल—(पुं.)
 सन्ध्यापासन करने का समय, साँझ ।
 संध्यस्त—(सं.वि.) देखें 'सन्ध्यस्त' ।
 संध्यास—(सं.पुं.) देखें 'सन्ध्यास' ।
 संध्यासी—(सं.वि.,पुं.) देखें 'सन्ध्यासी' ।
 संपत्ति—(सं.स्त्री.) ऐश्वर्य, धन, शोभा,
 गौरव, अधिकता, लाभ, प्राप्ति, सफलता ।
 संपद्—(सं.स्त्री.) संपत्ति, ऐश्वर्य
 विभव, सौभाग्य, गौरव, अधिकता ।
 संपदा—(हि.स्त्री.) धन, ऐश्वर्य ।
 संपल—(सं.वि.) साधित, पूरा किया हुआ,
 संपत्तिशाली; —ता—(स्त्री.) संपूर्णता ।
 संपर्क—(सं.पुं.) मिश्रण, मिलावट, संयोग,
 मिलाप, संसर्ग, लगाव, स्पर्श, योग, जोड़ ।
 संपाक—(सं.पुं.) अच्छी तरह पचना ।
 संपाचन—(सं.पुं.) देखें 'संपाक' ।
 संपाट—(सं.पुं.) किसी त्रिभुज की बढ़ाई
 हुई भुजा पर गिरनेवाला लंब ।
 संपाठ्य—(सं.वि.) अच्छी तरह पढ़ने योग्य ।
 संपात—(सं.पुं.) एक साथ गिरना, प्रवेश,
 संगम, मिलने का स्थान, घटित होना ।
 संपाति—(सं.पुं.) जटायु के बड़े भाई का
 नाम ।
 संपादक—(सं.पुं.) सम्पन्न करनेवाला, किसी
 काम को पूरा करनेवाला, समाचार-पत्र
 या पुस्तक का संपादन, संकलन आदि
 करनेवाला ।
 संपादकीय—(सं.वि.) संपादक-संबंधी ।
 संपादन—(सं.पुं.) प्रस्तुत करना, बनाना,
 ठीक करना, पुस्तक आदि को सुधार कर
 प्रकाशित होने के योग्य बनाना ।
 संपादनीय—(सं.वि.) संपादन करने योग्य ।

संपादित—(सं. वि.) निष्पन्न, पूरा किया हुआ, संपादन किया हुआ।
 संपाद्य—(सं. वि.) संपादन करने योग्य; (पुं.) ज्यामिति-शास्त्र की बनावट-संबंधी प्रतिज्ञा।
 संपादी—(सं. वि.) पूरा करनेवाला।
 संपीडन—(सं. पुं.) खूब पीड़ा देना, खब दवाना या निचोड़ना।
 संपुट—(सं. पुं.) पात्र के आकार की वह वस्तु जिसमें कुछ भरने के लिये स्थान हो, बोना, डिब्बा, अंजलि।
 संपुटी—(सं. स्त्री.) छोटा संपुट, कटोरी।
 संपूजन—(सं. पुं.) भली भाँति पूजन करना।
 संपूजित—(सं. वि.) अधिक सम्मान के योग्य।
 संपूर्ण—(सं. वि.) पूरा, भरा हुआ, पूर्ण, पूरा किया हुआ; (पुं.) वह राग जिसमें सातों स्वर लगते हों;—कालीन—(वि.) पूरे समय तक रहनेवाला;—ता—(स्त्री.) समाप्ति, संपूर्ण होने का भाव।
 सपेरा—(हिं. पुं.) साँप का तमाशा दिखानेवाला, मदारी।
 संपौलिया—(हिं. पुं.) साँप पकड़नेवाला।
 संप्रकाशक—(सं. वि.) अच्छी तरह प्रकाशित करनेवाला।
 संप्रक्षालन—(सं. पुं.) पूरी तरह से धोना।
 संप्रति—(सं. अव्य.) इस समय, अभी, ठीक तरह से।
 संप्रतिपत्ति—(सं. स्त्री.) अभियुक्त का न्यायालय में सच्ची बात स्वीकार करना, पहुँच, प्राप्ति।
 संप्रतिपन्न—(सं. वि.) स्वीकृत, मंजूर।
 संप्रतिपादन—(सं. पुं.) पूरा करना।
 संप्रतिरोधक—(सं. वि.) प्रतिवन्धक।
 संप्रतीक्ष्य—(सं. वि.) भली भाँति देखने योग्य।
 संप्रतीति—(सं. स्त्री.) प्रसिद्धि।
 संप्रदान—(सं. पुं.) दान देने की क्रिया या भाव, वह वस्तु जिसका दान किया जाता है, दीक्षा, भेंट, व्याकरण में चतुर्थी विभक्ति-युक्त वह शब्द जिसके साथ “को” या “के लिये” प्रयुक्त होता है।
 संप्रदाय—(सं. पुं.) गुरु परंपरागत उपदेश, गुरुमंत्र, धर्म-संबंधी कोई विशेष मत, मार्ग, पन्थ, रीति।
 संप्रदायी—(सं. वि., पुं.) मतावलम्बी, दाता, निद्व कर देनेवाला।
 संप्रधारण—(सं. पुं.) उन्नत-अन्नन का विचार।
 संप्रमाद—(सं. पुं.) मोह, भ्रान्ति।

संप्रमुक्त—(सं. स्त्री.) मोह, छूटकारा।
 संप्रयास—(सं. पुं.) अधिक प्रयास।
 संप्रयुक्त—(सं. वि.) एक साथ किया हुआ, जोड़ा हुआ, संबद्ध, मिला हुआ।
 संप्रयोग—(सं. पुं.) मेल, मिलाप, मैथुन, वशीकरण।
 संप्रयोगी—(सं. पुं.) कामुक, लंपट; (वि.) संप्रयोग करनेवाला।
 संप्रवृत्त—(सं. वि.) आरंभ किया हुआ।
 संप्रसाद—(सं. पुं.) योगशास्त्र के अनुसार चित्त की पूर्ण शांति।
 संप्रस्थित—(सं. वि.) जो प्रस्थान कर चुका हो।
 संप्रहर्ष—(सं. पुं.) अत्यधिक प्रसन्नता।
 संप्रहार—(सं. पुं.) युद्ध, लड़ाई, गमन।
 संप्राप्त—(सं. वि.) प्राप्त, पाया हुआ, उपस्थित, पहुँचा हुआ, कहा हुआ।
 संप्रिय—(सं. वि.) अधिक प्यारा।
 संप्रोति—(सं. स्त्री.) संतोप, हर्ष।
 संप्रेक्षण—(सं. पुं.) अच्छी तरह देखना।
 संप्रोक्षण—(सं. पुं.) अच्छी तरह पानी छिड़कना।
 संप्लुत—(सं. वि.) जल में डूबा हुआ।
 संबंध—(सं. पुं.) समृद्धि, उन्नति, गहरी मित्रता, संसर्ग, संपर्क, लगाव, एक साथ मिलना या जुटना, नाता, संयोग, मेल, विवाह, योग्यता, उपयुक्तता, व्याकरण में वह कारक जिसमें “का, की या के” विभक्तियाँ प्रयुक्त होती हैं।
 संबन्धातिशयोक्ति—(सं. स्त्री.) अतिशयोक्ति अलंकार का वह भेद जिसमें असंबंध में संबन्ध दिखलाया जाता है।
 संबन्धी—(सं. पुं.) नातेदार, जिसके साथ विवाह के कारण संबन्ध हुआ हो, समधी।
 संबद्ध—(सं. वि.) बँधा हुआ, संबन्धयुक्त।
 संबल—(सं. पुं.) सेमल का वृक्ष, रास्ते का भोजन, सखिया।
 संघाद्य—(सं. पुं.) संकट, बाधा, अड़चन; (वि.) संकुल, पूर्ण, भीड़ से भरा हुआ।
 संघाधक—(सं. वि.) बाधा पहुँचानेवाला।
 संवृद्ध—(सं. पुं.) ज्ञानी, पूर्ण रूप से जाना हुआ।
 संवोध—(सं. पुं.) ज्ञान, पूरा बोध, धर्म, दाइस, सात्वता।
 संवोधन—(सं. पुं.) पुकारना, नोंद से उठाना, जगाना, जताना, समझाना, व्याकरण में वह कारक जिसका प्रयोग किन्नी को पुकारने के लिये किया जाता है।
 संवक्ष—(सं. पुं.) साथ-साथ भोजन करना।
 संभान—(सं. वि.) पूर्णतः या बिनकुन दृष्ट

हुआ, छिन्न-मिन्न।
 संभय—(सं. पुं.) अधिक डर।
 संभरण—(सं. पुं.) पालन-पोषण, विधान, तैयारी।
 संभल—(सं. पुं.) घटक, दलाल।
 संभलना—(हिं. क्रि. अ.) टिका रहना, रकना, कात्र में रहना, सचेत होना, बुरी अवस्था को सुधार लेना, चंगा होना।
 संभव—(सं. पुं.) हेतु, कारण, जन्म, उत्पत्ति, प्रमाण का एक होना, घटित होना प्रसंग, समाई, समागम, मेल, उपयुक्तता, युक्ति, संभावना, संकेत; (वि.) जो हो सके, जो हो।
 संभवतः—(सं. अव्य.) हो सकता है, शायद।
 संभवनीय—(सं. वि.) जो हो सकता हो।
 संभाल—(हिं. स्त्री.) रक्षा, प्रवन्ध, चेतना, पोषण का भार।
 संभालना—(हिं. क्रि. स.) रक्षा करना, गिरने से बचाना, रोकना, थामना, सहेजना, निर्वाह करना, दशा बिगड़ने से बचाना, प्रवन्ध करना, पालन-पोषण करना।
 संभावन—(सं. पुं.) पूजा, सत्कार, आदर, चिन्ता, योग्यता, कल्पना, संपादन, मान, प्रतिष्ठा, संभव होना।
 संभावना—(सं. स्त्री.) देखें ‘संभावन’।
 संभावनीय—(सं. वि.) संभावन के योग्य, सत्कार करने योग्य।
 संभावित—(सं. वि.) विख्यात, प्रसिद्ध, मन में लाया हुआ, जो हो सकता हो।
 संभाषण—(सं. पुं.) कथोपकथन, बात-चाँत।
 संभाषणीय—(सं. वि.) सम्भाषण करने योग्य।
 संभु—(हिं. पुं.) देखें ‘शंभु’।
 संभूत—(सं. वि.) उत्पन्न, उपयुक्त।
 संभूति—(सं. स्त्री.) क्षमता, शक्ति, जन्म, उत्पत्ति, उपयुक्तता।
 संभूत—(सं. वि.) हृष्टपुष्ट, पाया हुआ, दिया हुआ, भरा हुआ, बनाया हुआ, उत्पन्न किया हुआ, युक्त, सहित।
 संभूतश्री—(सं. स्त्री.) मेघ, बादल।
 संभूतांग—(सं. वि.) हृष्टपुष्ट।
 संभूति—(सं. स्त्री.) अच्छी तरह पालन-पोषण, समूह, अधिकता।
 संभेद—(सं. पुं.) वियोग।
 संभोग—(सं. पुं.) किन्नी वस्तु का भन्नी भाँति उपभोग, मुरन, मैथुन, रति-श्रीड़ा, हर्ष, वह शृंगार जिसमें नायक और नायिका परस्पर दर्शन, स्पर्शादि द्वारा अनुरक्त होकर एक-दूसरे के साथ प्रेम का यानंद लेते हैं।

संभोगी—(सं. वि., पुं.) संभोग करनेवाला ।
 संभोजन—(सं. पुं.) एक साथ बैठकर भोजन करना ।
 संभ्रम—(सं. पुं.) डर से उत्पन्न व्याकुलता, आवेग, भ्रांति, भूल, चक्कर, आतुरता, उतावलापन, उत्कांठा ।
 संभ्रांत—(सं. वि.) उद्विग्न, घबड़ाया हुआ, घुमाया हुआ, चक्कर खाया हुआ ।
 संभ्रांति—(सं. स्त्री.) उद्वेग, घबड़ाहट, चक्करकाहट, हड़बड़ी ।
 संयंत्रित—(सं. वि.) बँधा हुआ, जकड़ा हुआ ।
 संयत्—(सं. वि.) संवद्ध, लगा हुआ ।
 संयत—(सं. वि.) बँधा हुआ, जकड़ा हुआ, बंद किया हुआ, व्यवस्थित, जिसने इन्द्रियों और मन को वश में किया हो, उद्यत, नियंत्रित; (पुं.) यति, संन्यासी ।
 संयताहार—(सं. वि.) थोड़ा खानेवाला ।
 संयति—(सं. स्त्री.) निरोध, वश में रखना ।
 संयम—(सं. पुं.) बन्धन, वश में करने की क्रिया या भाव, नियंत्रण, हानिकारक वस्तुओं से बचना, उद्योग, प्रयत्न ।
 संयमन—(सं. पुं.) आत्मनिग्रह, मन को वश में रखना, इन्द्रियों का दमन, नियंत्रण ।
 संयमनी—(सं. स्त्री.) यम की नगरी ।
 संयमित—(सं. वि.) दमन किया हुआ, बँधा हुआ, वश में लाया हुआ, नियंत्रित ।
 संयमी—(सं. वि., पुं.) आत्मनिग्रही, योगी ।
 संयात—(सं. वि.) प्राप्त, पहुँचा हुआ ।
 संयान—(सं. पुं.) यात्रा, प्रस्थान ।
 संयुक्त—(सं. वि.) लगा हुआ, मिला हुआ, सबद्ध ।
 संयुक्ता—(सं. स्त्री.) आवर्तकी लता, एक प्रकार का छन्द ।
 संयुग—(सं. पुं.) युद्ध, लड़ाई, संयोग, मिश्रित ।
 संयुत—(सं. वि.) संयुक्त, जुड़ा हुआ; (पुं.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में दस अक्षर होते हैं ।
 संयोग—(सं. पुं.) दो वस्तुओं का एक में मिलना, मिलान, मिलाप, समागम, श्रृंगार-रस का एक भेद, सम्बन्ध, स्त्री-पुरुष का सहवास, विवाह-सम्बन्ध, मतों का एक होना, दो या अधिक व्यञ्जन वर्णों का मेल, जोड़, अप्रत्याशित अवसर; -मंत्र—(पुं.) विवाह के समय पढ़ा जानेवाला वेद-मन्त्र ।
 संयोगित—(सं. वि.) संयोग किया हुआ ।
 संयोगी—(सं. वि.) संयोग करनेवाला, मिलानेवाला, विवाहित, जो अपनी प्रिया के साथ हो ।
 संयोगी—(हिं. पुं.) वैष्णव सम्प्रदाय का

एक भेद ।
 संयोजक—(सं. वि.) मिलानेवाला, जोड़नेवाला; (पुं.) व्याकरण में वह शब्द जो दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ता है ।
 संयोजन—(सं. पुं.) स्त्रीप्रसंग, मैथुन, जोड़ने या मिलाने की क्रिया, देखें 'संयोजना' ।
 संयोजना—(सं. स्त्री.) प्रबन्ध, व्यवस्था, प्रसंग, सहवास, भववन्धन का कारण, देखें 'संयोजन' ।
 संयोजित—(सं. वि.) मिलाया हुआ ।
 संरम्भ—(सं. पुं.) क्रोध, उत्साह, उत्कण्ठा, आडम्बर, गर्व, आरम्भ, युद्ध, लड़ाई ।
 संरक्त—(सं. वि.) अनुरक्त, आसक्त, कुपित ।
 संरक्षक—(सं. पुं., वि.) रक्षा करनेवाला, पालन-पोषण करनेवाला, सहायक, आश्रय देनेवाला ।
 संरक्षण—(सं. पुं.) देखरेख, प्रतिबन्ध, रक्षा ।
 संरक्षणीय—(सं. वि.) संरक्षण करने योग्य ।
 संरक्षित—(सं. वि.) संरक्षण किया हुआ ।
 संरब्ध—(सं. वि.) खूब मिला हुआ, उत्तेजित, उद्विग्न, क्रुद्ध, फूला या सूजा हुआ ।
 संरुद्ध—(सं. वि.) अच्छी तरह मरा हुआ, आच्छादित, ढपा हुआ ।
 संरुद्ध—(सं. वि.) अच्छी तरह लगा हुआ ।
 संरोध—(सं. पुं.) अवरोध, बाधा ।
 संरोधन—(सं. पुं.) रुकावट डालना, हृद बाँधना, बंद करना ।
 संरोपित—(सं. वि.) जमाया या लगाया हुआ ।
 संलक्षित—(सं. वि.) लक्षणों से जाना हुआ, पहचाना हुआ ।
 संलक्ष्य—(सं. वि.) वह जो लक्षित हो सके; -क्रमव्यंग्य—(पुं.) वह व्यंजना जिसमें वाच्यार्थ से व्ययार्थ के निकलने का भाव व्यक्त होता है ।
 संलग्न—(सं. वि.) संयुक्त, मिला हुआ, जुड़ा हुआ ।
 संलपन—(सं. पुं.) संलाप, बातचीत ।
 संलयन—(सं. पुं.) लीन होना, नष्ट होना ।
 संलाप—(सं. पुं.) आपस की बातचीत, नाटक में एक प्रकार का संवाद जो वैयर्थपूर्ण होता है ।
 संलापक—(सं. वि.) संलाप करनेवाला ।
 संलिप्त—(सं. वि.) अच्छी तरह लिपटा हुआ ।
 संलीन—(सं. वि.) पूर्णतः लीन, आच्छादित, सिकुड़ा हुआ ।
 संवत्—(सं. पुं.) संवत्सर, वर्ष, वर्ष-गणना जो किसी संख्या द्वारा सूचित की जाती है, विक्रम-संवत् ।
 संवदना—(सं. स्त्री.) मन्त्र, औपवि आदि से किसी को वश में करने की क्रिया ।

सँवर—(हिं. स्त्री.) स्मृति, स्मरण, याद, समाचार ।
 संवरण—(सं. पुं.) छिपाव, ढपना, परदा, घेरा, सेतु, पुल, चुनाव, कुरु के पिता का नाम ।
 संवरणीय—(सं. वि.) निवारण करने योग्य, छिपाने योग्य, वरण करने योग्य ।
 संवरना—(हिं. क्रि. अ.) अलंकृत होना, सजना ।
 संवरित—(सं. वि.) गोपित, छिपाया हुआ ।
 संवरिया—(हिं. वि.) देखें 'साँवला'; (पुं.) कृष्ण ।
 संवर्ग—(सं. पुं.) एक वस्तु का दूसरे में लीन होना, खपत, गुणनफल ।
 संवर्जन—(सं. पुं.) छीनना, खसोटना ।
 संवर्त—(सं. पुं.) लपेटने की क्रिया या भाव, घुमाव, चक्कर, एक कल्प का नाम, समूह, राशि, ग्रहों का योग, बहेड़े का वृक्ष ।
 संवर्तक—(सं. वि.) लपेटनेवाला, नाश करनेवाला ।
 संवर्तन—(सं. पुं.) फेरा या चक्कर देना, लपेटना ।
 संवर्तनी—(सं. स्त्री.) प्रलय ।
 संवर्तिका—(सं. स्त्री.) लपेटी हुई वस्तु, बलराम का अस्त्र ।
 संवर्धक—(सं. वि.) संवर्धन करनेवाला ।
 संवर्धन—(सं. पुं.) बढ़ाना, पालना, पोसना, उन्नत करना, बढ़ना ।
 संवर्धनीय—(सं. वि.) बढ़ाने या पालने-पोसने योग्य, संवर्धन के योग्य ।
 संवर्धित—(सं. वि.) बढ़ाया हुआ, पाला-पोसा हुआ ।
 संवलन—(सं. पुं.) संयोग, मेल-मिलाप ।
 संवलित—(सं. वि.) मिलाया हुआ, घिरा हुआ ।
 संवहन—(सं. पुं.) वहन करना, ले जाना ।
 संवाद—(सं. पुं.) सन्देश, समाचार, बातचीत, वृत्तान्त, प्रसंग, चर्चा, सहमति, नियुक्ति, व्यवहार ।
 संवादक—(सं. पुं.) भाषण करनेवाला ।
 संवादन—(सं. पुं.) भाषण, बातचीत ।
 संवादिका—(सं. स्त्री.) कीड़ा, चीटी ।
 संवादित—(सं. वि.) बोलने में प्रवृत्त किया हुआ, मनाया हुआ ।
 संवादिता—(सं. स्त्री.) सादृश्य, समानता ।
 संवादी—(सं. वि.) संवाद करनेवाला, सहमत होनेवाला, अनुकूल होनेवाला; (पुं.) संगीत में वह स्वर जो वादी के साथ मिल जाता और उसका सहायक होता है ।
 संवार—(सं. पुं.) आच्छादन, ढाँपना, छिपाना, बाधा, अडचन ।
 संवारण—(सं. पुं.) निषेध, छिपाना ।

संवारणीय—(सं. वि.) छिपाने योग्य, धारण करने योग्य।
 संवारना—(हिं. क्रि. स.) अलंकृत करना, सजाना, क्रम से रखना, ठीक करना।
 संवारित—(सं. वि.) रोका हुआ, मना किया हुआ।
 संवार्य—(सं.वि.) रोकने योग्य, छिपाने योग्य।
 संवास—(सं. पुं.) समा, समाज, परस्पर सम्बन्ध, सहवास, मैथुन, सार्वजनिक स्थान।
 संवाह—(सं. पुं.) ले जाना, ढोना, शरीर ढवाना।
 संवाहक—(सं. पुं.) ढोनेवाला, बदन मलनेवाला।
 संवाहन—(सं. पुं.) अंगमर्दन, हाथ-पैर ढवाना, ले जाना, पहुँचाना, ढोना।
 संवाहित—(सं. वि.) पहुँचाया हुआ, ढोया हुआ, जिसका अंग मर्दन किया गया हो।
 संवाही—(सं. वि., पुं.) हाथ-पैर ढवानेवाला, ढोनेवाला, पहुँचानेवाला।
 संविग्न—(सं. वि.) धवड़ाया हुआ, डरा हुआ।
 संवित्—(सं. स्त्री.) अंगीकार, युद्ध, लड़ाई, संकेत, बुद्धि, नियम, प्राप्ति।
 संविद्—(सं. वि.) चेतनायुक्त; (स्त्री.) समझीता, देखें 'संवित्'।
 संविदा—(सं. स्त्री.) व्यवस्था, व्यवहार, विचित्रता, घटना, रहन-सहन, ठहराव।
 संविदित—(सं. वि.) जाना या समझाया, हुआ, ढूँढ़ा हुआ, वादा किया हुआ, जिसकी राय या परामर्श दिया हुआ हो।
 संविधान—(सं. पुं.) व्यवस्था, रीति, योजना, विधान, किसी राष्ट्र की शासन-व्यवस्था के लिए विधितः बनाये गये आचारभूत नियमों का संग्रह।
 संविभजन—(सं. पुं.) देखें 'संविभाग'।
 संविभाग—(सं. पुं.) बाँट, बँटवारा, भाग।
 संविष्ट—(सं. वि.) निविष्ट, बैठा हुआ, आगत, पहुँचा हुआ।
 संवीक्षण—(सं. पुं.) अन्वेषण, खोज।
 संवीत—(सं. वि.) अलंकृत, ढपा हुआ; (पुं.) पहनावा, वस्त्र।
 संवृत—(सं. वि.) आच्छादित, ढपा हुआ, रक्षित, लपेटा हुआ, रूँचा हुआ; -कोष्ठ—(वि.) बद्धकोष्ठ; -मंत्र—(पुं.) गुप्त मन्त्रणा।
 संवृत्त—(सं. वि.) उपस्थित, समागत, पहुँचा हुआ, उत्पन्न।
 संवृद्ध—(सं. वि.) बढ़ा हुआ, उन्नत।
 संवेग—(सं. पुं.) आवेग, धक्काहट, नय।
 संवेजन—(सं. पुं.) उद्दिग्गता, धक्काहट।

संवेद—(सं. पुं.) अनुभव, वेदना, ज्ञान, बोध।
 संवेदन (ना)—(सं. पुं., स्त्री.) अनुभव करना, प्रकट करना, जताना।
 संवेदनीय—(सं. वि.) अनुभव करने योग्य, जताने योग्य।
 संवेदित—(सं. वि.) अनुभव किया हुआ, प्रतीत, जताया हुआ।
 संवेद्य—(सं. वि.) अनुभव करने योग्य, प्रतीति कराने योग्य, जताने योग्य।
 संवेश—(सं. पुं.) निद्रा, नींद, उपवेशन, आसन, शय्या, प्रवेश, घुसना, उपमोग, स्थान।
 संवेशक—(सं. पुं., वि.) व्यवस्थित करनेवाला।
 संवेशन—(सं. पुं.) प्रवेश करना, व्यवस्था, सीना।
 संवेष्ट—(सं. वि.) वेष्टित, घिरा हुआ।
 संशप्त—(सं. वि.) वाग्द्वन्द्व, जिसने शपथ-पूर्वक प्रतिज्ञा की हो।
 संशब्द—(सं. पुं.) प्रशंसा, स्तुति, ललकार।
 संशमन—(सं. पुं.) शान्त करना, निवृत्त करना, नष्ट करना, न रहने देना।
 संशय—(सं. पुं.) सन्देह, आशंका, सन्देह-नामक काव्यालंकार; -स्य—(वि.) सन्देहयुक्त।
 संशयाक्षेप—(सं. पुं.) सन्देह का दूर होना।
 संशयात्मक—(सं. वि.) सन्देहजनक।
 संशयान—(सं. वि.) संशययुक्त।
 संशयालु—(सं. वि.) संशय या सन्देह करनेवाला।
 संशयित—(सं. वि.) संदिग्ध, दुविधा में पड़ा हुआ, अनिश्चित।
 संशयी—(सं. वि.) सन्देह करनेवाला, शक्की।
 संशयोपमा—(सं. स्त्री.) वह उपमालंकार जिसमें कई वस्तुओं की समानता संशय के रूप में कही जाती है।
 संशयित—(सं. वि.) सन्दिग्ध, अनिश्चित।
 संशरण—(सं. पुं.) शरण में जाना।
 संशासन—(सं. पुं.) उत्तम राज्य-प्रबंध।
 संशित—(सं. वि.) निर्णोत, स्थिर किया हुआ, दक्ष, निपुण, सम्पूर्ण, पूरा।
 संशिष्ट—(सं. वि.) बचा हुआ, बाकी।
 संशीत—(सं. वि.) ठंड में जमा हुआ।
 संशुद्ध—(सं. वि.) विशुद्ध, परीक्षित, अपराध से मुक्त किया हुआ।
 संशुद्धि—(सं. वि.) पूरी सफाई, शुद्धि।
 संशोधक—(सं. वि.) संशोधन करनेवाला, संस्कार करनेवाला, चुकानेवाला।
 संशोधन—(सं. पुं.) शुद्ध करना, धुटि या दोष दूर करना, श्रृण आदि की चुकता करना।
 संशोधनीय—(सं. वि.) सुधारने योग्य।
 संशोधित—(सं. वि.) परिशुद्ध, निर्मल

किया हुआ, सुवारा या ठीक किया हुआ।
 संशोषण—(सं. पुं.) सोखना, सुखाना।
 संशोषित—(सं. वि.) सोखा हुआ।
 संश्रय—(सं. पुं.) आश्रय, शरण, संयोग, समागम, अवलम्बन, सहारा, उद्देश्य, लक्ष्य, ठहरने का स्थान।
 संश्रयण—(सं. पुं.) अवलम्ब, पनाह।
 संश्रयणीय—(सं. वि.) सहारा लेने योग्य।
 संश्रयी—(सं. वि., पुं.) सहारा लेनेवाला, नीकर।
 संश्रव—(सं. पुं.) अंगीकार, अस्वीकार, प्रतिज्ञा।
 संश्रवण—(सं. पुं.) खूब कान लगाकर सुनना, अंगीकार।
 संश्रांत—(सं. वि.) विलकुल थका हुआ।
 संश्रावक—(सं. पुं.) श्रोता, मुननेवाला, शिष्य।
 संश्रित—(सं. वि.) संयुक्त, जुटा हुआ, आलिंगित, टंगा हुआ, ठहरा हुआ।
 संश्रुत—(सं. वि.) स्वीकृत, अंगीकार किया हुआ, अच्छी तरह सुना हुआ।
 संश्रुत्य—(सं. पुं.) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम।
 संश्लिष्ट—(सं. वि.) आलिंगित, सम्मिलित, मिश्रित, मिला हुआ, संयुक्त; (पुं.) राशि, ढेर, एक प्रकार का मण्डप।
 संश्लेष—(सं. पुं.) आलिंगन, परिस्मरण, मेल-मिलाप, संयुक्त करना।
 संश्लेषण—(सं. पुं.) मिलाना, सटना, मिलना।
 संश्लेषित—(सं. वि.) आलिंगित, संयुक्त, सटाया हुआ।
 संश्लेषी—(सं. पुं.) आलिंगन करनेवाला।
 संस, संसद्—(हिं. पुं.) देखें 'संसय'।
 संसक्त—(सं. वि.) संबद्ध, लगा हुआ, जड़ा हुआ, आसक्त, प्रेम में फँसा हुआ, प्रवृत्त, लगा हुआ।
 संसक्ति—(सं. स्त्री.) आसक्ति, प्रवृत्ति, लगाव, परमाणुओं की परस्पर मिलने की शक्ति।
 संसनाना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'सनमनाना'।
 संसय—(हिं. पुं.) देखें 'संसय'।
 संसरण—(सं. पुं.) गमन, चलना, राजपग, चौड़ी सड़क, लड़ाई छिड़ना, संगार, जगत्, यात्रियों के ठहरने का स्थान।
 संसर्ग—(सं. पुं.) सम्बन्ध, संबन्ध, लगाव, न्याय के अनुसार समवाय-संबन्ध, सटवान, समागम, परिचय, परिश्रमा; -दोष—(पुं.) बुरी संगत ने उत्पन्न अवपुण्य या दोष; -विद्या—(स्त्री.) व्यवहार-कुशलता।
 संसर्गाभाव—(सं. पुं.) संबन्ध का न होना।
 संसर्गो—(सं. पुं.) सम्बन्ध, मित्र; (स्त्री.)

शुद्धि; (वि.) संसर्ग-संबंधी, संबद्ध ।
 संसर्जन—(सं. पुं.) संयोग होना, मिलना, जुटना, त्याग करना, छोड़ना, हटाना ।
 संसर्पण—(सं.पुं.) धीरे-धीरे चलना, रेंगना, सरकना, एकाएक आक्रमण करना ।
 संसर्पी—(सं.वि.) सरकनेवाला, रेंगनेवाला ।
 संसाद—(सं. पुं.) सभा, समाज ।
 संसादित—(सं. वि.) एकत्र किया हुआ, सजाया हुआ ।
 संसाधक—(सं. वि.) वश में करनेवाला, संपादन करनेवाला ।
 संसाधन—(सं. पुं.) आयोजन, वश में करना ।
 संसार—(सं. पुं.) मर्त्यलोक, जगत्, सृष्टि, गृहस्थी, आवागमन, वारंवार जन्म-मरण होना; -गुरु—(पुं.) जगद्गुरु, कामदेव; -चक्र—(पुं.) नाना योनियों में भ्रमण, मायाजाल, प्रपंच, संसार का उलट-फेर; -तिलक—(पुं.) एक प्रकार का उत्तम चावल; -भावन—(पुं.) संसार को दुःखमय जानना; -मंडल—(पुं.) भूमण्डल; -सागर—(पुं.) स्त्रियों की जननेन्द्रिय; -सागर—(पुं.) संसाररूपी समुद्र; -सारथि—(पुं.) शिव, महादेव ।
 संसारी—(सं. वि.) संसार-संबंधी, लौकिक, संसार में रहनेवाला, वारंवार जन्म लेनेवाला, व्यवहारकुशल ।
 संसिक्त—(सं. वि.) अच्छी तरह सीचा हुआ ।
 संसिद्ध—(सं. वि.) प्रस्तुत, उद्यत, प्राप्त, अच्छी तरह पका हुआ, निपुण, कुशल ।
 संसिद्धि—(सं. स्त्री.) किसी कार्य का निष्पन्न या पूर्ण होना, परिणाम, पूर्णता, प्रकृति ।
 संसी—(हिं. स्त्री.) देखे 'संडसी' ।
 संसुप्त—(सं.वि.) गाढी नींद में सोया हुआ ।
 संसूचक—(सं. वि.) प्रकट करनेवाला, जतानेवाला, भेद खोलनेवाला ।
 संसूचित—(सं. वि.) प्रकट किया हुआ, जताया हुआ ।
 संसूच्य—(सं. वि.) जताने योग्य ।
 संसृत—(सं. स्त्री.) वारंवार जन्म लेने की परंपरा, आवागमन, भवचक्र, संसार ।
 संसृष्ट—(सं. वि.) एक साथ उत्पन्न, परस्पर मिला हुआ, अन्तर्गत, संगृहीत, जुटाया हुआ, सम्पन्न किया हुआ, घनिष्ठ; -होम—(पुं.) सूर्य और अग्नि को एक ही में दी जानेवाली आहुति ।
 संसृष्टि—(सं. स्त्री.) एक साथ उत्पत्ति, परस्परसंबंध, लगाव, मिलावट, घनिष्ठता, हेलमेल, दो या अधिक अलंकारों का एक में मिलना, एक ही श्लोक में दो

या तीन अलंकारों का होना ।
 संसेक—(सं. पुं.) अच्छी तरह पानी का छिड़काव ।
 संसेवन—(सं. पुं.) उपयोग में लाना, व्यवहार करना, सेवा ।
 संसेविता, संसेवी—(सं.वि.) अच्छी तरह सेवा करनेवाला ।
 संस्करण—(सं.पुं.) शुद्ध करना, सुधारना, सुन्दर रूप में लाना, पुस्तकों की एक बार की छपाई, द्विजातियों का विवाह-संस्कार ।
 संस्कर्ता—(सं.पुं.) संस्कार करनेवाला ।
 संस्कार—(सं.पुं.) सुधार, अनुभव, मनोवृत्ति या स्वभाव का शोधन, वे कृत्य जो जन्म से मरण पर्यन्त द्विजातियों के लिये शास्त्र में बतलाये गये हैं, ये सोलह हैं, यथा-विवाह, गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, निष्क्रमण, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, आदि; त्रुटि का दूर होना, शुद्धि, पवित्र करना, धारणा, विश्वास, कल्पित विषय, इन्द्रियों पर बाह्य विषयों से पड़नेवाला प्रभाव, पूर्वजन्म का अर्जित गुण-दोष, शिक्षा, उपदेश, संगत आदि से चित्त पर पड़नेवाला प्रभाव, शौच, भूषित करना, सजाना, जीर्णोद्धार; -क—(वि.) संस्कार करनेवाला, शुद्ध करनेवाला; -ज—(वि.) संस्कार से उत्पन्न; -वर्जित, -हीन—(वि.) जिसका संस्कार न हुआ हो, ब्राह्म्य ।
 संस्कारी—(सं. वि.) संस्कार करनेवाला; (पुं.) सोलह मात्राओं का एक छन्द ।
 संस्कृत—(सं. पुं.) भारतवर्ष की प्राचीन राष्ट्र-भाषा, देववाणी; (वि.) संस्कार किया हुआ, जिसका उपनयन हुआ हो, मंत्र से पवित्र किया हुआ, अभिषिक्त, सजाया हुआ, पकाया हुआ, शुद्ध किया हुआ ।
 संस्कृति—(सं. स्त्री.) संस्कार, सुधार, परिष्कार, शुद्धि, सजावट, सम्यता, चौबीस वर्णों के वृत्तों की संज्ञा ।
 संस्किया—(सं. स्त्री.) संस्कार, शोधन ।
 संस्खलन—(सं.पुं.) मूल करना, चूकना ।
 संस्खलित—(सं.वि.) गिरा हुआ, मूला हुआ ।
 संस्तंभ—(सं.पुं.) हाथ-पैर आदि की गति का एकाएक रुक जाना, लकवा ।
 संस्तर—(सं. पुं.) शय्या, विस्तर, तह, परत ।
 संस्तव—(सं. पुं.) प्रशंसा, स्तुति ।
 संस्तीर्ण—(सं. वि.) छितराया या फैलाया हुआ ।

संस्तुत—(सं.वि.) प्रशंसित, जिसकी स्तुति की गई हो ।
 संस्था—(सं. स्त्री.) व्यवस्था, नियम, आकृति, गुण, अन्त, समाप्ति, मृत्यु, नाश, प्रलय, हिंसा, वध, मर्यादा, व्यवसाय, जत्था, मण्डल, समाज, सभा, समुदाय ।
 संस्थान—(सं.पुं.) स्थिति, ठहराव, प्रवण, आयोजन, ढाँचा, चिह्न, निकटता, चौराहा, रचना, निर्माण, जीवन, पालन, अनुसरण, जनपद, वस्ती, सार्वजनिक स्थान, आकृति, रूप, प्रकृति, स्वभाव, रोग का लक्षण, नाश, मृत्यु, सामीप्य, पड़ोस ।
 संस्थापक—(सं. वि., पुं.) प्रवर्तक, स्थापित करनेवाला, किसी सभा, समाज आदि की स्थापना करनेवाला; चित्र, खिलौना आदि बनानेवाला ।
 संस्थापन—(सं.पुं.) स्थापना करना, जमाना, बैठाना, कोई नई बात चलाना, रूप या आकार देना ।
 संस्थापित—(सं. वि.) निमित्त, बैठाना हुआ, संचित, स्थापित, प्रवर्तित ।
 संस्थित—(सं. वि.) ठहरा हुआ, जमाया हुआ, बटोरा हुआ, ढेर लगाया हुआ ।
 संस्थिति—(सं.स्त्री.) स्थित होने की क्रिया या भाव, अस्तित्व, प्रकृति, स्वभाव ।
 संस्पर्धा—(सं. स्त्री.) ईर्ष्या, डाह ।
 संस्पृष्ट—(सं. वि.) जुटा हुआ, सटा हुआ, छुआ हुआ, परस्पर संबद्ध ।
 संस्मरण—(सं.पुं.) याद, स्मरण, नाम लेना, स्मृति के आधार पर विगत अनुभवों के विभिन्न विषयों आदि के संबंध में लिखा हुआ ग्रंथ ।
 संस्मरणीय—(सं. वि.) नाम जपने योग्य ।
 संस्मरित—(सं. वि.) याद दिलाया हुआ ।
 संस्रव—(सं. वि.) एक साथ बहना, बहता हुआ जल, किसी वस्तु का बचा हुआ अंश ।
 संस्रावित—(सं.वि.) बहा हुआ, टपका हुआ ।
 संहत—(सं. वि.) संयुक्त, एक में मिला हुआ, घना, गटा हुआ, दृढ़, एकत्र, इकट्ठा, मिश्रित, एकमत ।
 संहतांजलि—(सं. वि.) करबद्ध, जो हाथ जोड़े हुए हो ।
 संहति—(सं. स्त्री.) समूह, झुण्ड, मेल, दृढ़ संबंध, ढेर, राशि, घनत्व, ठोसपन, सन्धि, जोड़, परमाणुओं का परस्पर संयोग ।
 संहनन—(सं. पुं.) शरीर का मर्दन, वध, मार डालना, संयोग, मेल, दृढ़ता ।

संहरण—(सं. पुं.) बलपूर्वक छीन लेना।
 संहरना—(हि. क्रि. अ., स.) संहार करना, नष्ट होना।
 संहर्षण—(सं. पुं.) पुलक, रोयें खड़े होना।
 संहत—(सं. पुं.) समूह, जमावड़ा।
 संहार—(सं. पुं.) इकट्ठा करना, बटोरना, समेटना, सग्रह, संचय, संक्षेप करना, संकोच, सिकुड़ना, निवारण, रोक, कौशल, निपुणता, ध्वंस, नाश, समाप्ति, अन्त, प्रलय; —क—(वि.) नाश करनेवाला; —काल—(पुं.) विश्व के नाश का समय, प्रलय; —भैरव—(पुं.) कालभैरव।
 संहारना—(हि. क्रि. स.) ध्वंस करना, नाश करना, मार डालना।
 संहित—(सं. वि.) एकत्र किया हुआ, बटोरा हुआ, मिलाया हुआ, संयुक्त, लगा हुआ।
 संहिता—(सं. स्त्री.) वह ग्रन्थ जिसमें नियमों, सिद्धांतों आदि का क्रमबद्ध निरूपण या संकलन किया गया हो, संगोप, मेल, मिलावट, व्याकरण के अनुसार दो अक्षरों का परस्पर मिलकर एक होना, सन्धि, वेदों का मुख्य भाग, धर्म-शास्त्र।
 संहृत—(सं. वि.) समेटा हुआ, संक्षिप्त किया हुआ, नष्ट, संक्षिप्त।
 संहृति—(सं. स्त्री.) संग्रह, संक्षेप, नाश।
 सइ—(हि. अव्य.) से, साथ; (प्रत्य.) विभक्ति का एक चिह्न जो करण और अपादान कारक में प्रयुक्त होता है।
 सइयो—(हि. स्त्री.) देखें 'सय्यी'।
 सई—(हि. स्त्री.) वृद्धि, बढ़ती।
 सईस—(हि. पुं.) देखें 'साईस'।
 सउं—(हि. अव्य.) सों, से।
 सऊर—(हि. पुं.) देखें 'शऊर'।
 सकंदक—(सं. वि.) कण्टकयुक्त, कँठीला।
 सकंप—(सं. वि.) कंपायमान, कांपता हुआ।
 सक—(हि. स्त्री.) शक्ति; (पुं.) साका, वाक।
 सकट—(सं. पुं.) शाखोट का वृक्ष; (हि. पुं.) शकट, गाड़ी, सगड़।
 सकटी—(हि. स्त्री.) छोटा सगड़ या गाड़ी।
 सकड़ी—(हि. स्त्री.) सिकड़ी।
 सकत—(हि. स्त्री.) शक्ति, बल, सामर्थ्य; (अव्य.) यथासंभव, भरसक।
 सकती—(हि. स्त्री.) शक्ति, शक्ति नामक अस्त्र।
 सकना—(हि. क्रि. अ.) कोई काम करने के योग्य होना, (इस क्रिया का व्यवहार सर्वदा किसी दूसरी क्रिया के साथ ही किया जाता है।)
 सकपपाना—(हि. क्रि. अ.) चकपाना,

हिचकिचाना, आगा-भीछा करना, लज्जित होना, (प्रेम, लज्जा या शंका के कारण) व्यग्रता दिखलाना।
 सकरना—(हि. क्रि. अ., स.) सकारा जाना, स्वीकृत होना, मान जाना।
 सकरा—(हि. वि.) देखें 'सँकरा'।
 सकरिया—(हि. स्त्री.) लाल शकरकन्द, रतालू।
 सकरण—(सं. वि.) करुणाशील, दयायुक्त।
 सकर्तक—(सं. वि.) (वाक्य या क्रिया) जिसमें या जिसका कर्ता हो।
 सकर्मक—(सं. पुं.) वह क्रिया जिसका कर्म हो; (वि.) कर्मयुक्त; —क्रिया—(स्त्री.) वह क्रिया जिसका प्रभाव उसके कर्म पर समाप्त होता है।
 सकल—(सं. वि.) समस्त, अखिल, कुल; (पुं.) दर्शन-शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार के जीवों में से एक, पशु, निर्गुण ब्रह्म और सगुण प्रकृति; —जननी—(स्त्री.) प्रकृति; —प्रिय—(वि.) सब को अच्छा लगनेवाला; —सिद्धि—(वि.) अणिमादि सभी सिद्धियों से युक्त।
 सकलाधार—(सं. पुं.) शिव, महादेव।
 सकलेंद्रु—(सं. पुं.) पूर्ण चन्द्र, पूर्णिमा का चन्द्रमा।
 सकलेश्वर—(सं. पुं.) विष्णु।
 सकसकाना—(हि. क्रि. अ.) अत्यन्त भयभीत होना, डर के मारे कांपना।
 सकसाना—(हि. क्रि. अ.) भयभीत होना, डर मानना।
 सकाना—(हि. क्रि. अ.) शंका करना, संदेह करना, दुःखी होना, हिचकना।
 सकाम—(सं. वि.) लव्वकाम, जिसकी कामना पूरी हो गई हो, प्रेम करनेवाला, कामी, फल की कामना से कोई काम करनेवाला।
 सकामा—(सं. स्त्री.) मैयून की इच्छा रखनेवाली स्त्री, कामवती स्त्री।
 सकामी—(हि. वि.) कामनायुक्त, कामी, विपयी।
 सकार—(सं. पुं.) "स" अक्षर।
 सकारण—(सं. वि.) हेतुयुक्त, कारण-सहित।
 सकारना—(हि. क्रि. स.) स्वीकार करना, (महाजनों का) हुंडी की मिति पूरी होने के एक दिन पहले उसे स्वीकार करते हुए उस पर हस्ताक्षर करना।
 सकारविपुला—(सं. स्त्री.) एक छन्द का नाम।
 सकाश—(सं. वि.) समीप, निकट।
 सकिलना—(हि. क्रि. अ.) नरकना, फिसलना, हो भवना।

सकुच—(हि. स्त्री.) संकोच, लज्जा।
 सकुचना—(हि. क्रि. अ.) संकोच करना, लज्जा करना, फूलों का संपुटित होना।
 सकुचाई—(हि. स्त्री.) संकोच, लज्जा।
 सकुचाना—(हि. क्रि. अ., स.) संकोच करना, सिकोड़ना, लज्जित करना।
 सकुची—(हि. स्त्री.) कछुवे के आकार की लंबी और कड़ी पूंछवाली एक प्रकार की मछली, (यह पानी के बाहर भी रह सकती है।)
 सकुचीला—(हि. वि.) संकोच करनेवाला।
 सकुचीहां—(हि. वि.) संकोच करनेवाला।
 सकुड़ना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'सिकुड़ना'।
 सकुत्तहल—(सं. वि.) कौतुकयुक्त।
 सकुन—(हि. पुं.) शकुन पक्षी, चिड़िया।
 सकुनी—(हि. स्त्री.) चील, चिड़िया।
 सकुल्य—(सं. वि.) सगोत्र, एक ही कुल या वंश का।
 सकुत्—(सं. अव्य.) एक बार, माथ, सदा।
 सकुत्प्रजा—(सं. स्त्री.) वांझपन, जेरनी।
 सकेत—(हि. पुं.) संकेत, निद्रिष्ट स्थान, विपत्ति, कष्ट, दुःख; (वि.) संकीर्ण, संकुचित।
 सकेतना—(हि. क्रि. अ.) सिकुड़ना, संकुचित होना।
 सकेलना—(हि. क्रि. स.) इकट्ठा करना, जमा करना।
 सकोच—(हि. पुं.) देखें 'संकोच'।
 सकोड़ना—(हि. क्रि. स.) देखें 'सिकोड़ना'।
 सकोप, सकोपित—(सं. हि. वि.) क्रोधयुक्त।
 सकोपना—(हि. क्रि. अ.) क्रोध करना।
 सकोरा—(हि. पुं.) मिट्टी का छोटा पात्र, कसोरा।
 सकौतुक—(सं. वि.) कौतुकयुक्त।
 सककरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द।
 सक्ति—(सं. स्त्री.) संग, संगोप; (हि. स्त्री.) देखें 'शक्ति'।
 सक्तु—(सं. पुं.) मूने हुए अन्न को पीनकर तैयार किया हुआ आटा, सत्तु।
 सक—(हि. पुं.) सक, सक्त; —पति—(पुं.) विष्णु।
 सकारि—(हि. पुं.) भेषनाद।
 सक्रिय—(सं. वि.) क्रियायुक्त, पुनीला।
 सक्रोध—(सं. पुं.) मत्तोप, क्रोधयुक्त।
 सकप—(सं. वि.) तावकान।
 सकम—(सं. वि.) समर्थ, काम करने योग्य, क्षमायुक्त।
 सकार—(सं. वि.) क्षारयुक्त, मसकीम।
 सक्त—(हि. पुं.) सक्त, मित, मत्तोप; —पति—

(पुं.) मित्रता ।
 सखरस—(हिं. पुं.) मक्खन ।
 सखरा—(हिं. वि.) खारा; (पुं.) जल में पकाया हुआ भोजन, कच्ची रसोई ।
 सखरी—(हिं. स्त्री.) कच्ची रसोई ।
 सखा—(हिं. पुं.) साथी, संगी, सहचर, नाटक में वह व्यक्ति जो सर्वदा नायक के साथ रहता है ।
 सखित्व—(सं. पुं.) बन्धुता, मित्रता ।
 सखी—(सं. स्त्री.) सहचरी, सहेली, नाटक में वह स्त्री जो सर्वदा नायिका के साथ रहती है, एक प्रकार का छन्द ।
 सखीभाव—(सं. पुं.) वैष्णवों का भगवद्-भजन का एक प्रकार जिसमें भक्त अपने को इष्टदेवता की पत्नी या सखी मानकर उसकी उपासना करता है ।
 सखुआ—(हिं. पुं.) शाल वृक्ष, साखू ।
 सख्त—(अ. वि.) कठोर, कड़ा, कठिन, कठोर-हृदय ।
 सख्ती—(अ. स्त्री.) सख्त होने की अवस्था, भाव आदि, कठोरता, कड़ाई, कठिनता ।
 सख्य—(सं. पुं.) बंधुता, सखा का भाव, मित्रता, वैष्णवों के मत के अनुसार वह भक्ति जिसमें भक्त इष्ट देवता को अपना सखा मानता है;—ता—(स्त्री.) मैत्री ।
 सखंध—(सं. वि.) गंधयुक्त ।
 सख—(फा. पुं.) कुत्ता; (वि.) सगा ।
 सखड़ी—(हिं. स्त्री.) छोटा सगड़ ।
 सखण—(सं. पुं.) छन्दःशास्त्र में एक गण जिसमें दो लघु और एक गुरु अक्षर होता है ।
 सखन—(हिं. पुं.) देखें 'सगण' ।
 सखपन—(हिं. पुं.) देखें 'सगापन' ।
 सखपहती, सखपती—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की दाल जो साग मिलाकर बनाई जाती है ।
 सखवग—(हिं. वि.) तराबोर, लयपथ; परिपूर्ण, भीत ।
 सखवग(गा)ना—(हिं. क्रि. अ.) लयपथ होना, तराबोर होना, भयभीत होना, जाग्रत होना, घबड़ाना ।
 सखभक्ता—(हिं. पुं.) साग मिलाकर पकाया हुआ भात ।
 सखर—(सं. पुं.) एक सूर्यवंशी राजा जो बड़े धर्मात्मा थे, (इनके साठ हजार पुत्र थे । राजा भगीरथ इन्हीं के वंशज थे ।)
 सखरा—(हिं. वि.) सम्पूर्ण, कुल; (पुं.) तालाब, झील ।

सखर्व—(सं. वि.) अभिमानी, अहंकारी
 सखल—(हिं. वि.) देखें 'सकल' ।
 सखा—(हिं. वि.) एक ही माँ-बाप से उत्पन्न, सहोदर, निकट के संबंध का ।
 सखाई—(हिं. स्त्री.) विवाह-संबंध का निश्चय, मंगनी, शूद्रों में स्त्री-पुरुष का एक प्रकार का विवाह के तुल्य संबंध, संबंध, नाता ।
 सखापन—(हिं. पुं.) सगा होने का भाव, आत्मीयता ।
 सखण—(सं. वि.) गुणयुक्त, गुणवान्; (पुं.) साकार ब्रह्म, वह सम्प्रदाय जिसमें ईश्वर को सखणरूप मानकर अवतारों की पूजा होती है ।
 सखणता—(सं. स्त्री.) सखण होने का भाव ।
 सखन—(हिं. पुं. वि.) देखें 'शकुन', 'सखण' ।
 सखनाना—(हिं. क्रि. स.) शकुन बतलाना ।
 सखनिया—(हिं. पुं.) शकुन विचारने या बतलानेवाला ।
 सखनौती—(हिं. स्त्री.) शकुन विचारने की क्रिया ।
 सखह—(सं. वि.) सपरिवार, घरवाला ।
 सखोती—(हिं. वि., पुं.) सखोत्र, एक वंश का, नाते के लोग, भाई-बन्धु ।
 सखौती—(हिं. स्त्री.) खाने का मांस ।
 सखन—(सं. वि.) अविरल, घना, ठोस;—ता—(स्त्री.) सखन होने का भाव, ठोसपन ।
 सखण—(सं. वि.) धृणायुक्त ।
 सख—(हिं. वि.) यथार्थ, वास्तविक, सत्य ।
 सखन—(सं. पुं.) सेवा करने की क्रिया या भाव ।
 सखना—(हिं. क्रि. स.) एकत्रित करना, इकट्ठा करना ।
 सखमुच—(हिं. अव्य.) यथार्थ में, वस्तुतः, निस्सन्देह, निश्चय ।
 सखरना—(हिं. क्रि. अ.) प्रचलित होना, फैलना, संचार करना ।
 सखराचर—(सं. पुं.) सब चर और अचर प्राणी ।
 सखल—(सं. वि.) जंगम, चलायमान, चलनेवाला ।
 सखाई—(हिं. स्त्री.) सत्यता, सच्चापन, ईमानदारी ।
 सखान—(सं. पुं.) श्येन पक्षी, बाज ।
 सखारना—(हिं. क्रि. स.) फैलाना ।
 सखित—(सं. वि.) चिन्तायुक्त, चिन्तित ।
 सखिकण—(सं. वि.) बहुत चिकना ।
 सखित्—(सं. वि.) जिसको ज्ञान या चेतना हो ।

सखित्त—(सं. वि.) जिसका ध्यान किसी एक ओर लगा हो ।
 सखित्र—(सं. वि.) चित्रयुक्त, चित्रित ।
 सखिव—(सं. पुं.) मन्त्री, सहायक, मित्र ।
 सखी—(सं. स्त्री.) शची, इन्द्राणी ।
 सखीसुत—(सं. पुं.) जयन्त ।
 सखु—(हिं. पुं.) सुख, आनन्द, प्रसन्नता ।
 सखेत—(हिं. वि.) चेतनायुक्त, समझदार, सावधान ।
 सखेतन—(सं. वि.) चैतन्य, चतुर; (पुं.) सज्ञान प्राणी ।
 सखेती—(हिं. स्त्री.) सावधानी ।
 सखेष्ट—(सं. वि.) चेष्टा या प्रयत्न करनेवाला ।
 सखरित (त्र)—(सं. वि.) जिसका चाल-चलन अच्छा हो ।
 सख्वा—(हिं. वि.) सत्यवादी, सच बोलनेवाला, ईमानदार, यथार्थ, वास्तविक, विशुद्ध, ठीक ।
 सख्वाई—(हिं. स्त्री.) सत्यता, सच्चापन, ईमानदारी ।
 सख्वापन—(हिं. पुं.) सत्यता, सच्चाई ।
 सख्वाहट—(हिं. स्त्री.) सत्यता, सच्चापन ।
 सखित्त—(सं. पुं.) सत् और चित् से युक्त ब्रह्म ।
 सखित्तानंद—(सं. पुं.) सत्, ज्ञान और सुखस्वरूप ब्रह्म ।
 सख्छंद—(हिं. वि.) देखें 'स्वच्छंद' ।
 सख्छत—(हिं. वि.) 'धायल' ।
 सख्छाय—(हिं. वि.) छायायुक्त ।
 सख्छात्र—(सं. पुं.) उत्तम विद्यार्थी ।
 सख्छी—(हिं. पुं.) साक्षी ।
 सख—(हिं. स्त्री.) सजने की क्रिया या भाव, रूप, शकल, शोभा, सौंदर्य ।
 सखग—(हिं. वि.) सतर्क, सावधान ।
 सखदार—(हिं. वि.) अच्छी आकृति का, सुन्दर ।
 सखधज, सखवज—(सं. स्त्री.) शृंगार, सजावट ।
 सखन—(सं. वि.) जनयुक्त; (पुं.) भला आदमी, पति, प्रियतम, यार, आशिक ।
 सखना—(हिं. क्रि. अ., स.) शृंगार करना, अलङ्कृत करना, शोभा देना, सुशोभित होना; (पुं.) सहिजन वृक्ष, पति ।
 सखनी—(हिं. स्त्री.) सखी ।
 सखन्य—(सं. वि.) सजातीय ।
 सखल—(सं. वि.) जलयुक्त, अशुपूर्ण ।
 सखवना—(हिं. पुं.) तैयारी ।
 सखवाई—(हिं. स्त्री.) सजने या सजाने की क्रिया, सजाने का शुक ।

सजवाना—(हिं. क्रि. स.) सजाने का काम दूसरे से कराना ।
 सजा—(फा. पुं.) दंड, जुरमाना, वदला ।
 सजाई—(हिं. स्त्री.) सजाने की क्रिया या भाव, सजाने का शुकल ।
 सजागर—(सं. वि.) जाग्रत, जागता हुआ ।
 सजाति—(सं. वि., पुं.) एक ही जाति के व्यक्ति, एक जाति का ।
 सजातीय—(सं. वि.) एक जाति या गोत्र का ।
 सजान—(हिं. वि.) सजाना, चतुर ।
 सजाना—(हिं. क्रि. स.) शृंगार करना, अलंकृत करना, वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से रखना ।
 सजाव—(हिं. पुं.) मलाईयुक्त दही ।
 सजावट—(हिं. स्त्री.) शोभा, तैयारी ।
 सजावन—(हिं. पुं.) सजाने का भाव या क्रिया ।
 सजीव—(हिं. वि.) देखें 'सजीव' ।
 सजीला—(हिं. वि.) सजवज के साथ रहनेवाला, मनोहर, सुन्दर, छैला, सुडील ।
 सजीव—(सं. वि.) जीवित, जिसमें प्राण हो, ओजस्वी; (पुं.) जीवधारी प्राणी ।
 सजीवन—(हिं. पुं.) संजीवनी नामक वृद्धि; -वृद्धि—(स्त्री.) रुद्रवृद्धि; -मंत्र—(पुं.) वह मन्त्र जिसके विषय में यह कहा जाता है कि यह मृत प्राणी को जिला देता है ।
 सजुग—(हिं. वि.) सचेत, चैतन्य ।
 सजुता—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सात अक्षर होते हैं ।
 सजूरी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मिठाई ।
 सजीना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'सजना' ।
 सज्ज—(सं. वि.) सज्जित, सजा हुआ, कवचधारी; -ता—(स्त्री.) सजावट ।
 सज्जन—(सं. पुं.) सत्पुरुष, भला आदमी, सम्यक् व्यक्ति, अच्छे कुल का मनुष्य, प्रियतम, सजाने की क्रिया या भाव; -ता—(स्त्री.) भलमनसी; -ताई—(हिं. स्त्री.) भलमनसी ।
 सज्जा—(सं. स्त्री.) वेशभूषा, सजावट; (हिं. स्त्री.) चारपाई, शय्या ।
 सज्जित—(सं. वि.) विभूषित, सजा हुआ ।
 सज्जी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का धार जो भूरापन लिये सफेद होता है; -जार—(पुं.) सज्जी; -वृद्धि—(स्त्री.) एक वनस्पति जिससे सज्जी निकाली जाती है ।
 सज्जुता—(हिं. स्त्री.) सजुता नामक छन्द ।
 सज्जुष्ट—(सं. वि.) मुक्तदायक, औनन्द देनेवाला ।

सजान—(सं. वि.) ज्ञानयुक्त, चतुर, बुद्धिमान् ।
 सझनी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का छोटा पक्षी ।
 सटक—(हिं. स्त्री.) सटकने की क्रिया, खिसकने की क्रिया, हुकने में लगा हुआ लंबा नैचा, पतली लचकनेवाली छड़ी ।
 सटकना—(हिं. क्रि. अ.) धीरे से भाग जाना, चंपत होना, वालों से अन्न के दाने निकालने के लिये उनको पीटना ।
 सटकाना—(हिं. क्रि. स.) किसी को कोड़े, छड़ी आदि से मारना, सट-सट शब्द करते हुए हुक्का पीना ।
 सटकार—(हिं. स्त्री.) सटकारने की क्रिया या भाव ।
 सटकारना—(हिं. क्रि. स.) किसी लचीली वस्तु से किसी को मारना, झटकारना ।
 सटकारा—(हिं. वि.) चिकना और लंबा ।
 सटकारी—(हिं. स्त्री.) लचकनेवाली पतली छड़ी ।
 सटक्का—(हिं. पुं.) देखें 'सटक', दौड़, झपट ।
 सटना—(हिं. क्रि. अ.) दो वस्तुओं का परस्पर लगना, चिपकना, साथ होना, मिलना ।
 सटपट—(हिं. स्त्री.) सटपटाने की क्रिया, चकपकाहट, असमंजस, संकट, दुविधा ।
 सटपटाना—(हिं. क्रि. अ.) सटपट की ध्वनि होना, हिचकिचाना, भौचकना होना ।
 सटर-पटर—(हिं. वि.) अत्यंत साधारण, तुच्छ; (स्त्री.) तुच्छ वस्तु, उलझन का काम ।
 सटसट—(हिं. अव्य.) सट-सट शब्द के साथ, अति शीघ्र, तुरत ।
 सटा—(सं. स्त्री.) जटा, शिला, केशर ।
 सटाक—(हिं. पुं.) सट शब्द ।
 सटाकी—(हिं. स्त्री.) छड़ी में लगी हुई चमड़े की पट्टी ।
 सटान—(हिं. स्त्री.) सटने की क्रिया या भाव, मिलान ।
 सटाना—(हिं. क्रि. अ., स.) मिलाना, जोड़ना, मारपीट करना, स्त्री-पुरुष का संयोग होना ।
 सटिया—(हिं. स्त्री.) सोने या चांदी की एक प्रकार की चूड़ी ।
 सटोक—(सं. वि.) टीका या व्याख्या सहित; (हिं. वि.) ठीक, जैसा चाहिये बैसा ।
 सटूक—(सं. पुं.) नाटक का एक भेद जिसमें प्रायः भद्रभूत रस का वर्णन रहता है ।
 सट्टा—(हिं. पुं.) किसी काम को निश्चित करने के लिये लिया हुआ प्रतिज्ञापत्र, हाट; -वृद्धि—(पुं.) हेनमंज, मेलमिलाप ।
 सट्टी—(हिं. स्त्री.) वह हाट जिसमें फन, तरकारी आदि विक्री होती है ।

सट्टेवाज—(हिं. पुं.) लाम की आशा से चीजों का थोक सीदा करना ।
 सठ—(हिं. वि., पुं.) देखें 'शठ', दुष्ट, पाजी ।
 सठता—(हिं. स्त्री.) शठता, दुष्टता ।
 सठियाना—(हिं. क्रि. अ.) साठ वर्ष का होना, बूढ़ा होना, वृद्धावस्था के कारण विवेक तथा बुद्धि का कम होना ।
 सठेरा—(हिं. पुं.) संठा, सनई ।
 सड़क—(हिं. स्त्री.) राजमार्ग, मार्ग, रास्ता ।
 सड़न—(हिं. स्त्री.) सड़ने का भाव या क्रिया ।
 सड़ना—(हिं. क्रि. अ.) किसी पदार्थ में दुर्गंधयुक्त विकार होना, दुर्दशा भोगना वुरी अवस्था में पहुँचना ।
 सड़सठ—(हिं. वि.) साठ और सात की संख्या का; (पुं.) वह संख्या जो गिनती में साठ और सात हो, ६७; -वाँ—(वि.) गिनती में सड़सठ के स्थान पर होनेवाला ।
 सड़सी—(हिं. स्त्री.) देखें 'सँड़सी' ।
 सड़ाइद—(हिं. स्त्री.) सड़ी हुई चीज से निकलनेवाली दुर्गंध ।
 सड़ाक—(हिं. पुं.) कोड़े आदि को सटकारने का शब्द; (अव्य.) शीघ्रता के साथ ।
 सड़ान—(हिं. स्त्री.) सड़ने की क्रिया ।
 सड़ाना—(हिं. क्रि. स.) किसी वस्तु को सड़ने में प्रवृत्त करना ।
 सड़ावध—(हिं. स्त्री.) सड़ी हुई वस्तु की दुर्गंध ।
 सड़ाव—(हिं. पुं.) सड़ने की क्रिया या भाव ।
 सड़ासड़—(हिं. अव्य.) सड़-सड़ शब्द के साथ ।
 सड़ियल—(हिं. वि.) सड़ा या गजा हुआ, तुच्छ, नीच ।
 सत—(हिं. पुं.) सत्व, किसी पदार्थ का मूल तत्त्व, सार भाग, शक्ति; (वि.) सात का संक्षिप्त रूप, सौ ।
 सतकार—(हिं. पुं.) देखें 'सत्कार' ।
 सतकारना—(हिं. क्रि. स.) सम्मान करना ।
 सतगोठिया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की वनस्पति जिसकी तरकारी बनाई जाती है ।
 सतगुरु—(हिं. पुं.) अच्छा गुरु, परमात्मा ।
 सतजुग—(हिं. पुं.) देखें 'सत्ययुग' ।
 सतत—(सं. अव्य.) सर्वदा, निरन्तर; -ना, -गति—(पुं.) वादु, दया ।
 सतदल—(हिं. पुं.) कमल, नन्दन ।
 सतनजा—(हिं. पुं.) सान प्रकार के अन्नों का मिश्रण ।
 सतनी—(हिं. स्त्री.) गणपती की पत्नी, गणिका ।
 सतनु—(सं. वि.) गणेशवाद्या ।
 सतपतिया—(हिं. स्त्री.) वह स्त्री जिसने सान पति लिए हो, धर्मनिरासी, निमान, एक तरह की सतनी ।

सप्तपदी—(हिं. स्त्री.) देखें 'सप्तपदी' ।
 सप्तपुत्रिया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की तरौई जो वर्षा ऋतु में होती है ।
 सप्तपुरिया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की जंगली मधुमक्खी ।
 सप्तफेरा—(हिं. पुं.) विवाह के समय होने-वाला सप्तपदी नामक कृत्य ।
 सप्तभइया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मैना ।
 सप्तभाव—(हिं. पुं.) सद्भाव, सज्जनता, सचाई ।
 सप्तभौरी—(हिं. स्त्री.) विवाह के समय वर और कन्या का सात वार अग्नि की प्रदक्षिणा करना ।
 सप्तमा(बाँ)सा—(हिं. वि., पुं.) सात महीने गर्भावधान के बाद उत्पन्न होनेवाला (बच्चा), वह रीति जो गर्भावधान के सातवें महीने में की जाती है ।
 सप्तमलौ—(हिं. स्त्री.) शतावरी, सतावर ।
 सप्तयुग—(हिं. पुं.) देखें 'सत्ययुग' ।
 सप्तरंगा—(हिं. विं.) जिसमें सात रंग हों ।
 सप्तरंज—(हिं. स्त्री.) देखें 'शतरंज' ।
 सप्तरंजी—(हिं. स्त्री.) देखें 'शतरंजी' ।
 सप्तरह—(हिं. वि., पुं.) देखें 'सप्तरह' ।
 सप्तराना—(हिं. क्रि.अ.) क्रोध करना, कुठना ।
 सप्तरौहां—(हिं. वि.) कुपित, क्रोधयुक्त ।
 सप्तर्क—(सं. वि.) तर्कयुक्त, सावधान; -त्ता—(स्त्री.) सावधानी ।
 सप्तपना—(हिं. क्रि. स.) भली भाँति सन्तुष्ट करना ।
 सप्तल—(सं. वि.) तलयुक्त, पेंदीवाला ।
 सप्तलज—(हिं. स्त्री.) पंजाब की पाँच प्रसिद्ध नदियों में से एक, शतद्रु नदी ।
 सप्तलड़ा—(हिं. वि., पुं.) सात लड़ियों का (हार) ।
 सप्तवती—(हिं. स्त्री.) सती, पतिव्रता स्त्री ।
 सप्तशीर्ष—(सं. पुं.) विष्णु का एक नाम ।
 सप्तसंग—(हिं. पुं.) देखें 'सत्संग' ।
 सप्तसंगी—(हिं. वि.) देखें 'सत्संगी' ।
 सप्तसई—(हिं. स्त्री.) सात सौ पद्यों का समूह, वह ग्रन्थ जिसमें सात सौ पद्य हों ।
 सप्तह—(अ. स्त्री.) तल, भूभाग आदि का ऊपरी स्तर ।
 सप्तहत्तर—(हिं. वि.) सत्तर और सात की संख्या का; (पुं.) सत्तर और सात की संख्या, ७७; -वाँ—(वि.) जो क्रम में सप्तहत्तर के स्थान पर हो ।
 सप्तगं—(हिं. पुं.) रथ, यान ।
 सप्तानंद—(हिं. पुं.) गौतम ऋषि के पुत्र जो राजा जनक के पुरोहित थे, शतानंद ।
 सप्तर—(सं. वि.) ताराओं से मंडित ।

सताल—(हिं. पुं.) एक छोटा वृक्ष जिसके गोल फल खाये जाते हैं, सफताल ।
 सतावर—(हिं. स्त्री.) एक झाड़दार वेल जिसकी जड़ औषधों के काम में आती है, शतावर ।
 सतासी—(हिं. वि., पुं.) अस्सी और सात (की संख्या), ८७; -वाँ—(वि.) जिसका क्रम या स्थान अस्सी और सात पर पड़ता हो ।
 सति—(सं. स्त्री.) दान ।
 सतिमिर—(सं. वि.) अन्वकारयुक्त ।
 सतिल—(सं. वि.) तिलयुक्त, तिल के साथ ।
 सतिवन—(हिं. पुं.) एक बड़ा सदावहार वृक्ष जिसकी छाल दवाओं के काम में आती है, सप्तपर्णी ।
 सती—(सं. स्त्री.) साध्वी स्त्री, पतिव्रता स्त्री, वह स्त्री जो अपने पति के शव के साथ चिता में जले, दक्ष की कन्या का नाम जो शिव को व्याही थी, वह छन्द जिसके प्रत्येक चरण में चार अक्षर होते हैं, विश्वामित्र की पत्नी का नाम; -चौरा—(हिं. पुं.) वह वेदी या चबूतरा जो किसी स्त्री के सती होने के स्थान पर उसके स्मारक के रूप में बनाया जाता है; -त्व—(पुं.) सती होने का भाव; -०हरण—(पुं.) परस्त्री के साथ बलात्कार; -पन—(हिं. पुं.) सती होने का भाव ।
 सत्तुआ—(हिं. पुं.) भूने हुए जौ, चने आदि का महीन आटा, सत्तू; -संक्रांति—(स्त्री.) मेष-संक्रांति जिस दिन सत्तू दान दिया जाता है ।
 सत्तुप—(सं. वि.) भूसी-सहित (अन्न) ।
 सत्तृण—(सं. वि.) तृणयुक्त ।
 सत्तृष्ण, सत्तृष—(सं. वि.) पिपासित, प्यासा, अभिलाषी ।
 सत्तेज(जा)—(हिं., सं. वि.) तेजस्वी, बलवान ।
 सत्तैरी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मधुमक्खी ।
 सतोगुण—(हिं. पुं.) देखें 'सत्वगुण' ।
 सतोगुणी—(हिं. वि.) सात्विक, उत्तम प्रकृति का ।
 सतौला—(हिं. पुं.) प्रसूता स्त्री का विधिपूर्वक सातवें दिन का स्नान ।
 सत्—(सं. वि.) सत्ता या अस्तित्व से युक्त, सत्य, शुभ, विद्यमान, चिरस्थायी; (पुं.) ब्रह्मा, सत्य ।
 सत्कथा—(सं. स्त्री.) शास्त्र-संबंधी कथा ।
 सत्कारण—(सं. पुं.) सत्कार करना, आदर करना ।

सत्कर्म—(सं. पुं.) अच्छा कार्य, पुण्य ।
 सत्कवि—(सं. पुं.) श्रेष्ठ कवि, सुकवि ।
 सत्कार—(सं. पुं.) आदर, सम्मान, पूजा, आतिथ्य ।
 सत्कार्य—(सं. पुं.) सत्कर्म, अच्छा काम; (वि.) सत्कार करने योग्य ।
 सत्कीर्ति—(सं. स्त्री.) उत्तम कीर्ति, सुयश ।
 सत्कुल—(सं. पुं.) अच्छा कुल; (वि.) अच्छे कुल का, कुलीन ।
 सत्कृत—(सं. वि.) जिसका सत्कार किया गया हो; (पुं.) विष्णु ।
 सत्कृति—(सं. स्त्री.) सत्कार ।
 सत्क्रिया—(सं. स्त्री.) शव की दाह-क्रिया, अच्छा व्यवहार, पुरस्कार ।
 सत्त—(हिं. पुं.) किसी पदार्थ का सार भाग, सत्व ।
 सत्तर—(हिं. वि.) साठ और दस की संख्या का; (पुं.) साठ और दस की संख्या, ७०; -वाँ—(वि.) जो क्रम में सत्तर के स्थान पर हो ।
 सत्तर्क—(सं. पुं.) उत्तम तर्क ।
 सत्ता—(सं. स्त्री.) विद्यमानता, अस्तित्व, उत्कर्ष, उत्पत्ति, प्रभुत्व, शक्ति, वेदांतानुसार गुण, द्रव्य तथा कर्म विशिष्ट जाति ।
 सत्ता—(हिं. स्त्री.) ताश या गंजीके का वह पत्ता जिसमें सात बूटियाँ हों ।
 सत्ताइस—(हिं. वि.) बीस और सात की संख्या का; (पुं.) बीस और सात की संख्या, २७; -वाँ—(वि.) जो क्रम में सत्ताइस के स्थान पर पड़ता हो ।
 सत्तावारी—(सं. वि., पुं.) अधिकारी ।
 सत्तानवे—(हिं. वि.) नव्वे और सात की संख्या का; (पुं.) नव्वे और सात की संख्या, ६७; -वाँ—(वि.) जो क्रम में सत्तानवे के स्थान पर पड़ता हो ।
 सत्तानवन—(हिं. वि.) पचास और सात की संख्या का; (पुं.) पचास और सात की संख्या, ५७; -वाँ—(वि.) जो क्रम में सत्तानवन के स्थान पर पड़ता हो ।
 सत्ताशास्त्र—(सं. पुं.) पाश्चात्य दर्शन की वह शाखा जिसमें मूल या पारमार्थिक सत्ता का विवेचन हो ।
 सत्तासी—(हिं. वि.) अस्सी और सात की संख्या का; (पुं.) अस्सी और सात की संख्या, ८७; -वाँ—(वि.) जो सत्तासी के स्थान पर हो ।
 सत्तू—(हिं. पुं.) जौ, चने आदि को भूनकर पीसा हुआ आटा, सत्तुआ ।
 सत्पति—(सं. पुं.) साधुओं का पालन करनेवाला ।

सत्पत्र—(सं. पुं.) कमल का नया पत्ता ।
 सत्वथ—(सं. पुं.) उत्तम मार्ग, सम्प्रदाय या सिद्धान्त ।
 सत्वशु—(सं. पुं.) उत्तम पशु ।
 सत्पात्र—(सं. पुं.) दान आदि देने के योग्य उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ या सदाचारी मनुष्य, अच्छा वर, उपयुक्त व्यक्ति ।
 सत्पुत्र—(सं. पुं.) सुपुत्र, उत्तम संतान ।
 सत्पुरुष—(सं. पुं.) पूज्य पुरुष, भला आदमी ।
 सत्पुष्प—(सं. पुं.) बढ़िया फूल ।
 सत्फल—(सं. पुं.) नारियल, अनार ।
 सत्य—(सं. पुं.) सतयुग, कृतयुग, यथार्थ, या ठीक बात, प्रतिज्ञा, शपथ, पातंजल-दर्शन के अनुसार यथार्थ बात और विचार, ब्रह्म, विष्णु, पीपल का वृक्ष, नवें कल्प का नाम, उचित पक्ष, पारमार्थिक सत्ता, सात ऊर्ध्व लोकों में से सब से ऊपर का लोक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं; (वि.) वास्तविक, सच्चा, ठीक, सही; —कर्म—(पुं.) सत्कार्य करनेवाला; —काम—(वि.) सत्य का प्रेमी; —घ्न—(वि.) सत्य की उपेक्षा करनेवाला; —जित्—(वि.) कृष्ण के एक पुत्र का नाम; —ज्ञ—(वि.) सत्य को जाननेवाला; —तः—(अव्य.) वस्तुतः, यथार्थ में, सचमुच; —ता—(स्त्री.) वास्तविकता, सचाई; —धृति—(वि.) सत्य-शील; —नारायण—(पुं.) सत्यस्वरूप विष्णु; —पर—(वि.) सच्चा; —पुरुष—(पुं.) परमात्मा; —प्रतिज्ञ—(वि.) सत्यवादी, वचन का सच्चा; —फल—(पुं.) वेल का वृक्ष; —भामा—(स्त्री.) श्रीकृष्ण की एक प्रधान महिषी का नाम; —भारत—(पुं.) वेदव्यास; —भाषण—(पुं.) सच बात कहना; —युग—(पुं.) चार युगों में से पहले युग का नाम; —युगी—(वि.) सत्य-युग का, सत्यनिष्ठ; —रूप—(पुं.) विष्णु; —लोक—(पुं.) ब्रह्मलोक; —वती—(स्त्री.) वेदव्यास की माता का नाम; —वाचक—(वि.) सच बोलनेवाला; —वादी—(पुं., वि.) यथार्थ बक्ता, सत्य पर दृढ़ रहनेवाला, सत्य बोलनेवाला; —वान—(पुं.) सावित्री के पति का नाम; —वाहन—(वि.) सत्य पर दृढ़ रहनेवाला; —विक्रम—(वि.) सत्यवादी; —वत—(वि.) सच बोलनेवाला; (पुं.) वृत्तराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; —शाल—(वि.) सच्चा; —संकल्प—(वि.) विचार हुए काम को पूरा करनेवाला; —संप—

(वि.) सत्यवादी; (पुं.) विष्णु, रामचन्द्र ।
 सत्या—(सं. स्त्री.) व्यास की माता सत्यवती, कृष्ण की पत्नी सत्यमामा, दुर्गा ।
 सत्याग्रह—(सं. पुं.) किसी न्यायपूर्ण पक्ष के लिये निरन्तर शान्तिपूर्ण आग्रह ।
 सत्यानास—(हिं. पुं.) सर्वनाश, ध्वंस ।
 सत्यानासी—(हिं. वि.) नाश करनेवाला, अमागा; (पुं.) एक कँटीला पांघा ।
 सत्यायु—(सं. पुं.) उर्वशी के एक पुत्र का नाम ।
 सत्येतर—(सं. वि.) सत्य से भिन्न, झूठा ।
 सत्र—(सं. पुं.) यज्ञ, धन, घर, वह स्थान जहाँ अनार्यों को भोजन दिया जाता है, शिक्षण-संस्था की वार्षिक कार्यावधि, विधानसभा के अधिवेशन की एक अवधि ।
 सत्रि, सत्री—(हिं. पुं.) यज्ञकर्ता ।
 सत्व—(सं. पुं.) अस्तित्व, सत्ता, चित्त की प्रवृत्ति, सत्व, चैतन्य, प्राण, जीव; —गुण—(पुं.) अच्छे काम करने का गुण; —धाम—(पुं.) विष्णु का एक नाम ।
 सत्वर—(सं. अव्य.) शीघ्र, तुरत, झटपट ।
 सत्संग—(सं. पुं.) साधु या सज्जन के साथ उठना-बैठना ।
 सत्संगति—(सं. स्त्री.) देखें 'सत्संग' ।
 सत्संगी—(सं. वि.) सत्संग करनेवाला ।
 सत्समागम—(सं. पुं.) भले आदमियों का संसर्ग ।
 सथर—(हिं. पुं.) स्थल, स्थान, भूमि ।
 सथिया—(हिं. पुं.) स्वस्तिक, एक मंगल-सूचक चिह्न जो समकोण पर काटती हुई दो रेखाओं के रूप में बनता है, स्वास्तिक (卐), चीर-फाड़ करनेवाला ।
 सदंभ—(सं. वि.) धमंडी ।
 सद—(हिं. अव्य.) तुरत; (वि.) नवीन, ताजा; (स्त्री.) प्रकृति, अम्यास ।
 सदई—(हिं. अव्य.) सर्वदा ।
 सदक्ष—(सं. वि.) ज्ञानयुक्त, विवेकी ।
 सदन—(सं. पुं.) घर, जल, पानी, स्थिरता, विराम, थकावट ।
 सदना—(हिं. क्रि. अ.) छेद से रसना, चूना ।
 सदवर्ग—(सं. पुं.) हजारों गैदा ।
 सदय—(सं. वि.) दयालु, दयायुक्त ।
 सदर्य—(सं. पुं.) नैक विषय ।
 सदर्यना—(हिं. क्रि. स.) पुष्टि या समर्थन करना ।
 सदर्य—(सं. वि.) अनिमानो, धमंडी ।
 सदसत्—(सं. वि.) सच और झूठ, अच्छा और बुरा; —रुल—(पुं.) भला और बुरा पत्त; —विदेक—(पुं.) अच्छे और बुरे की पहचान या ज्ञान ।

सदस्य—(सं. पुं.) याजक, यज्ञ करनेवाला; किसी समाज या समाज का समासद ।
 सदहा—(हिं. पुं.) अनाज आदि लादने की बड़ी ढैलगाड़ी; (वि.) सैकड़ों ।
 सदा—(सं. अव्य.) सर्वदा, निरन्तर ।
 सदागति—(सं. पुं.) वायु, हवा, मूर्ध, विष्णु; (वि.) सर्वदा चलनेवाला ।
 सदागम—(सं. पुं.) अच्छा सिद्धान्त ।
 सदाचरण—(सं. पुं.) अच्छा चाल-चलन ।
 सदाचार—(सं. पुं.) सात्विक व्यवहार, साधुओं का सा आचरण, भलमनूसी, रीति ।
 सदाचारी—(सं. वि.) धर्मात्मा, पुण्यात्मा, अच्छे आचरणवाला, सर्वदा धूमनेवाला ।
 सदातन—(सं. पुं.) विष्णु; (वि.) नित्य ।
 सदानंद—(सं. वि.) सर्वदा प्रसन्न रहनेवाला; (पुं.) शिव ।
 सदाफल—(सं. पुं.) नारियल, गलर, वेल, कटहल, एक प्रकार का नींबू; (वि.) हमेशा फलनेवाला ।
 सदावर्त—(हिं. पुं.) देखें 'सदावर्त' ।
 सदावहार—(हिं. वि.) जो सर्वदा हरा बना रहे; (पुं.) वह वृक्ष जो सदा हरा रहे ।
 सदाभव—(सं. वि.) चिरन्तन, सदा रहनेवाला ।
 सदावर्त—(सं. पुं.) नित्य दीन-दुखियों को अन्न बांटना, वह भोजन जो दीन-दुखियों को प्रतिदिन बांटा जाय ।
 सदाशय—(सं. वि.) उच्च विचारवाला, उदारशय ।
 सदाशिव—(सं. वि.) सर्वदा कल्याण करनेवाला, सदा दयालु; (पुं.) शिव, महादेव ।
 सदासुख—(सं. वि.) सर्वदा मुग्धी ।
 सदासुहागिन—(हिं. वि. स्त्री.) (स्त्री) जो बहुकाल तक सुहागिन बनी रहे, जो पतिहीन न हो; (स्त्री.) वैश्या, रंडी ।
 सदुमित—(सं. स्त्री.) माधु-नाथन ।
 सदुपदेश—(सं. पुं.) उत्तम शिक्षा, अच्छा उपदेश, अच्छी सलाह ।
 सदृश—(सं. वि.) उपरि, तुल्य, बराबर, अनुरूप, समान; —ता—(स्त्री.) समानता, तुल्यता ।
 सदेव—(सं. वि., पुं.) परोसी, पड़ोस ।
 सदेह—(सं. वि., अव्य.) देह-रहित, बिना शरीर लागे हुए, शरीर त्याग करके हुए ।
 सदय—(सं. अव्य.) सर्वदा ।
 सद्योप—(सं. वि.) योग्य, उचित, दोषी ।
 सद—(सं. वि.) 'सद्' का समकालीन-पाठ रूप ।

सद्गति—(सं. स्त्री.) उत्तम गति, मुक्ति, निर्वाण, सच्चरित्र, अच्छा व्यवहार।
 सद्गुण—(सं. पुं.) उत्तम गुण, दया आदि गुण; (वि.) गुणवान्।
 सद्गुणी—(हिं. वि.) अच्छे गुणोंवाला।
 सद्गुरु—(सं. पुं.) धर्म-गुरु, अच्छा शिक्षक, परमेश्वर।
 सद्ग्रन्थ—(सं. पुं.) अच्छा ग्रन्थ, सन्मार्ग पर लेजानेवाला ग्रन्थ।
 सद्ग्रह—(सं. पुं.) शुभ ग्रह, बृहस्पति और शुक्र ग्रह।
 सद्—(हिं. वि.) देखें 'शब्द'; (अव्य.) सद्य, तुरत।
 सद्धर्म—(सं. पुं.) उत्तम धर्म।
 सद्धेतु—(सं. पुं.) दोषरहित हेतु।
 सद्भाव—(सं. पुं.) अच्छा भाव, मैत्री, मेलजोल।
 सद्भू—(सं. वि.) सत्य, यथार्थ।
 सद्घ—(सं. पुं.) घर, जल, पानी, पृथ्वी और आकाश।
 सद्धिनी—(सं. स्त्री.) बड़ा घर, महल।
 सद्यः—(सं. अव्य.) अभी, तुरत; -क्षत—(वि.) जो अभी घायल हुआ हो; -प्रसूता—(स्त्री.) जिसको अभी बच्चा पैदा हुआ हो; -फल—(वि.) जिसका फल तुरत मिल जाय।
 सद्य—(सं. अव्य.) इसी क्षण, इसी समय, अभी, तुरत, शीघ्र; (पुं.) शिव का एक रूप।
 सद्योजात—(सं. पुं.) शिव; (वि.) इसी क्षण उत्पन्न।
 सद्रत्न—(सं. पुं.) उत्तम रत्न।
 सद्रंश—(सं. पुं.) उत्तम वंश।
 सद्रिद्या—(सं. स्त्री.) ब्रह्मविद्या, ब्रह्मज्ञान।
 सधना—(हिं. क्रि. अ.) सिद्ध होना, पूरा होना, अभ्यस्त होना, लक्ष्य ठीक होना, घोड़ों आदि का निकलना, ठीक नापा जाना।
 सधर्म—(सं. वि.) एक ही धर्म या स्वभाव-वाला, तुल्य, समान; -चारिणी—(स्त्री.) भार्या, पत्नी।
 सधर्मी—(सं. वि.) समान, तुल्य, सधर्म।
 सधवा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सुहागिन।
 सधाना—(हिं. क्रि. स.) साधने का काम दूसरे से कराना।
 सधावर—(हिं. पं.) वह उपहार जो गर्भवती स्त्री को गर्भ के सातवें महीने में दिया जाता है।
 सधूम्र—(सं. वि.) धुएँ से युक्त।
 सन—(हिं. पुं.) बोया जानेवाला एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सियाँ बनाई जाती हैं।

सनई—(हिं. स्त्री.) छोटी जाति का सन।
 सनक—(सं. पुं.) ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से एक; (हिं. स्त्री.) किसी बात की धुन, चिन्त की प्रवृत्ति, उन्माद; (मुहा.) -सवार होना—किसी बात की धुन होना।
 सनकना—(हिं. क्रि. अ.) पागल या झक्की होना।
 सनकाना—(हिं. क्रि. स.) किसी को सनकने में प्रवृत्त करना।
 सनकारना, सनकियाना—(हिं. क्रि. स.) आँख से इशारा या संकेत करना।
 सनत्—(सं. पुं.) ब्रह्मा।
 सनत्कुमार—(सं. पुं.) ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से एक।
 सनत्ता—(हिं. पुं.) वह वृक्ष जिस पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं।
 सनद—(अ. स्त्री.) प्रमाण-पत्र।
 सनना—(हिं. क्रि. अ.) जल के योग से किसी वस्तु के चूर्ण के कणों का परस्पर मिलना, लेई बन जाना, पगना।
 सननी—(हिं. स्त्री.) देखें 'सानी'।
 सनमान—(हिं. पुं.) सम्मान, प्रतिष्ठा।
 सनमानना—(हिं. क्रि. स.) सत्कार करना।
 सनमुख—(हिं. अव्य.) देखें 'सम्ममुख'।
 सनसनाना—(हिं. क्रि. अ.) हवा के वेग से शब्द होना, खौलते हुए पानी से शब्द होना।
 सनसनाहट—(हिं. पुं.) सनसनाने का शब्द।
 सनसनी—(हिं. स्त्री.) उद्वेग, धवड़ाहट, खलबली, झुनझुनी, सनसनाहट।
 सनाद्वय—(हिं. पुं.) गौड़ ब्राह्मणों की एक शाखा।
 सनातन—(सं. पुं.) विष्णु, शिव, ब्रह्मा, प्राचीन काल से चला आता हुआ क्रम; (वि.) बहुत पुराना, नित्य, परम्परागत; -धर्म—(पुं.) परम्परागत धर्म, वर्तमान हिन्दू धर्म का वह स्वरूप जो परम्परा से माना जाता है, (इस धर्म में पुराण, तन्त्र, देवी-देवताओं की उपासना, प्रतिमा-पूजन, तीर्थ-माहात्म्य आदि मान्य हैं); -पुरुष—(पुं.) विष्णु, भगवान्।
 सनातनी—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा; (हिं. पुं.) सनातन धर्म का अनुयायी; (हिं. वि.) जिसकी परम्परा बहुत पुरानी हो, सनातन।
 सनाथ—(सं. वि.) जिसकी रक्षा करने-वाला कोई हो।
 सनाथा—(सं. वि. स्त्री.) (वह स्त्री) जिसका पति जीवित हो।
 सनाभ—(सं. पुं.) सहोदर भाई।

सनामक, सनामा—(सं. वि.) एक नाम का।
 सनाह—(हिं. पुं.) कवच।
 सनित—(हिं. वि.) सना हुआ।
 सनिद्र—(सं. वि.) निद्रायुक्त।
 सनीचर—(हिं. पुं.) देखें 'शनैश्चर'।
 सनीचरी—(हिं. पुं.) ज्योतिषानुसार शनि की दशा जिसमें दुःख, व्याधि आदि की अधिकता रहती है।
 सनीड—(सं. अव्य.) निकट, पास, पड़ोस में।
 सनह—(हिं. पुं.) देखें 'स्नेह', प्रेम।
 सनेही—(हिं. वि.) प्रेमी, प्रेम करनेवाला; (पुं.) प्रियतम।
 सन्—(अ. पुं.) साल, संवत्।
 सन्न—(सं. वि.) स्तम्भित, भौचक, हीन, रहित, स्तब्ध, डर से चुप; (पुं.) चिरौजी का वृक्ष।
 सन्नत—(सं. वि.) झुका हुआ, सिकुड़ा हुआ, उदास।
 सन्नद्ध—(सं. वि.) कवच आदि धारण कर तैयार, उपद्रवी, बँधा हुआ, कसा हुआ, समीप का।
 सन्नाटा—(हिं. पुं.) निःशब्दता, नीरवता, विलकुल चुप रहने का भाव, उदासी, वायु का सन-सन शब्द; (वि.) निस्तब्ध, एकान्त, नीरव; (मुहा.) -खींचना—एकदम चुप हो जाना; सन्नाटे में आना—एकदम स्तब्ध होना।
 सन्नाद—(सं. पुं.) भीषण शब्द।
 सन्नाह—(सं. पुं.) उद्योग, प्रयत्न, अंग-त्राण, कवच, युद्ध का पहनावा।
 सन्निकट—(सं. अव्य.) समीप, पास।
 सन्निकर्ष—(सं. पुं.) समीप, सामने की स्थिति।
 सन्निकान—(सं. वि.) निकटता, समीपता, आश्रय, इन्द्रिय-विषय, समागम।
 सन्निकि—(सं. स्त्री.) समीपता, निकटता, आमने-सामने की स्थिति, पड़ोस, इन्द्रिय-विषय।
 सन्ननाद—(सं. पुं.) जोर का शब्द।
 सन्नपात—(सं. पुं.) ताल का एक भेद, समूह, संयोग, संग्राम, युद्ध, नाश, जूटना, भिड़ना, इकट्ठा होना, (वात, पित्त, तथा कफ का) एक साथ विगड़ना।
 सन्नबद्ध—(सं. वि.) जकड़ा हुआ, लगा हुआ।
 सन्नमग्न—(सं. वि.) पूरा डूबा हुआ, सोया हुआ।
 सन्निरुद्ध—(सं. वि.) रोका हुआ, ठहराया हुआ, दमन किया हुआ।

सन्निरोध—(सं. पुं.) रुकावट, बाधा, दमन ।
सन्निवार्य—(सं. वि.) निवारण करने या रोकने लायक ।

सन्निविष्ट—(सं. वि.) एक साथ बैठ आ, निकटवर्ती, उपस्थित, पास का, लगा हुआ, रखा हुआ, आया हुआ ।

सन्निवेश—(सं. पुं.) आकृति, रचना, व्यवस्था, योजना, समाज, समूह, एकत्र होना, जुटना, स्थिति, आधार, लगाना, बैठाना, रखना, अटना, ठहराना, एक साथ बैठना, गाँव के लोगों का पंचायत

आदि के लिए इकट्ठा होने का स्थान ।
सन्निवेशित—(सं. वि.) बैठाया हुआ, जमाया हुआ, ठहराया हुआ, स्थापित, अट्टाया हुआ ।

सन्निहित—(सं. वि.) समीप का, निकट का, एक साथ या पास रखा हुआ, उद्यत, तैयार ।

सन्मान—(हिं. पुं.) देखें 'सम्मान' ।

सन्मुख—(हिं. अव्य.) देखें 'सम्मुख' ।

सन्त्यस—(सं. पुं.) त्याग, फेंकना, छोड़ना, स्थापित करना, रखना ।

सन्त्यस्त—(सं. वि.) समर्पित, जिसने सन्त्यास लिया हो ।

सन्त्यास—(सं. पुं.) विषय-भोग के कर्मों का त्याग, चतुर्थ आश्रम, एक रोग विशेष, संसार के प्रपंच से अलग होने की अवस्था, त्याग ।

सन्त्यासी—(हिं. वि., पुं.) चतुर्थ आश्रमी, जिसने सन्त्यास-ग्रहण किया हो, वैरागी, त्यागी ।

सपई—(हिं. स्त्री.) पेट का केंचुआ ।
सपक्ष—(सं. वि.) तुल्य, समान, समर्थक, अनुकूल, डैनीवाला; (पुं.) मित्र, सहायक, अनुकूल पक्ष, न्याय में वह बात या दृष्टान्त जिससे साध्य का समर्थन हो ।

सपक्षता—(सं. स्त्री.) पक्षावलम्बन, अनुकूलता ।

सपटा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का टाट ।
सपत्न—(सं. पुं.) शत्रु, वैरी, विरोधी ।
सपत्नी—(सं. स्त्री.) एक ही पति की दूसरी स्त्री, सौत ।

सपत्नीक—(सं. वि.) पत्नी या सपत्नी के सहित ।
सपत्र—(सं. पुं.) बाण, तीर; (वि.) पत्तों से युक्त ।

सपय—(हिं. स्त्री.) सौगन्ध ।
सपदि—(सं. अव्य.) तुरत, तीघ्र ।
सपना—(हिं. पुं.) स्वप्न, निद्रा की अवस्था में चित्त-गोचर अनुभव ।

सपरवा, सपरवाई—(हिं. पुं.) गानेवाली

रंडी के साथ तबला, सारंगी आदि बजानेवाला, मड्डुवा, समाजी ।

सपरना—(हिं. क्रि. अ.) किसी कार्य का पूरा या समाप्त होना, निवहना, किया जा सकता, हो सकता ।

सपराना—(हिं. क्रि. स.) काम पूरा करना, निवटाना ।

सपरिकर—(सं. वि.) अनुचरवर्ग के साथ, ठाट-वाट से युक्त ।

सपरिच्छद—(सं. वि.) देखें 'सपरिकर' ।

सपर्या—(सं. स्त्री.) आराधना, उपासना ।

सपाट—(हिं. वि.) समतल, बराबर, चिकना, जिसका तल चौरस हो ।

सपाटा—(हिं. पुं.) दौड़ने या चलने का वेग, झोक, झपट; सं-सपाटा—(पुं.) धूमना-फिरना ।

सपाद—(सं. वि.) पादयुक्त, जिसके साथ उसका चौयाई भाग बढ़ा हुआ हो ।

सपाल—(सं. वि.) लोक का पालन करनेवाला ।

सपिंड—(सं. पुं.) सात पुरखों तक के संबंधी, एक ही वंश के वे पुरुष जो एक ही पितरों को पिण्डदान देते हों, (सपिण्ड को कुल में जन्म और मरण का अणुच लगता है ।)

सपिंडीकरण—(सं. पुं.) मृतक के निमित्त वह श्राद्ध जिससे वह पितरों के साथ मिलाया जाता है ।

सपीतक—(सं. पुं.) धीयातरौई, नेनुवा ।

सपुत्र—(सं. वि.) पुत्रवान् ।

सपुष्प—(सं. वि.) पुष्पयुक्त, जिसमें फूल हो ।

सपूत—(हिं. पुं.) अच्छा पुत्र, वह पुत्र जो अपने कर्तव्य का पालन करता हो ।

सपूती—(हिं. स्त्री.) सपूत होने का भाव, योग्य पुत्र उत्पन्न करनेवाली माता ।

सपेद—(हिं. वि.) श्वेत ।

सपेरा—(हिं. पुं.) देखें 'सैपेरा' ।

सपोला—(हिं. पुं.) साँप का छोटा बच्चा ।

सप्त—(सं. वि.) वह जो गिनती में सात हो; (पुं.) सात की संख्या, ७; -ऋषि—(पुं.) देखें 'सप्तर्षि'; -क—(वि.) सातवाँ, जिसमें सात की संख्या हो; (पुं.) सात वस्तुओं का समूह, संगीत में सात स्वरों का समूह;

-जी—(स्त्री.) चन्द्रहार, किकिपी, कमर की कश्मी; -प्रही—(स्त्री.) एक ही गति में सात प्रहरों का एकत्रित होना; -चन्द्र—(पुं.) छतिपन नाम का वृक्ष; -जिह्व—(पुं.) अग्नि, (इसकी

सात जिह्वाओं के नाम—काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुयूत्रवर्णा, उग्रा और प्रदीप्ता हैं); -ज्वाल—(हिं. पुं.) अग्नि; -दीविति—(पुं.) अग्नि; -द्वीप—(पुं.) पुराण के अनुसार पृथ्वी के सात बड़े और मुख्य भाग, (इनके नाम—जम्बू द्वीप, कुञ्ज द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मलि द्वीप, क्रौंच द्वीप और पुष्कर द्वीप हैं);

-घातु—(स्त्री.) शरीर की सात घातुएँ, यथा—रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा और शुक; -धान्य—(पुं.) जौ, धान, उड़द आदि सात अन्न जो पूजा में उपयोग किये जाते हैं; -नाडीचक्र—(पुं.) फलित ज्योतिष के एक चक्र का नाम; -पत्र—(पुं.) सप्तपर्ण वृक्ष, छतिवन; -पदार्य—(पुं.) द्रव्य, गुण, कर्म, नामान्य, विशेष, समवाय और अभाव—ये सात पदार्य; -पदी—(स्त्री.) विवाह की वह रीति जिसमें वर और वधु अग्नि की सात बार परिक्रमा करते हैं; -पर्ण—(पुं.) छतिवन का वृक्ष, एक प्रकार की मिठाई; -पर्णी—(स्त्री.) लज्जालु नाम की लता; -पाताल—(पुं.) पृथ्वी के नीचे के सात लोक जिनके नाम—अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं; -पुत्री—(स्त्री.) सप्तपुतिया नामक तरकारी; -पुरी—(स्त्री.) सात पवित्र तीर्थ; यथा—काशी, कांची, उज्जयिनी, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा और द्वारका; -भूम—(वि.) साया, सडोवाना (महन); -म—(वि.) सातवाँ; -मातृका—(स्त्री.) सात शक्तियाँ जिनका पूजन शुभ कार्यों के अवसर पर होता है, इनके नाम—ब्राह्मी, माहेश्वरी, कामारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री और चामुण्डा हैं; -मी—(स्त्री.) शुकन या कृष्ण पक्ष की सातवी तिथि; -रुचि—(पुं.) अग्नि का एक नाम; -शती—(स्त्री.) गान गी श्लोकों का देवी-माहात्म्य, सात गी या नमूह, बंगाल के ब्राह्मणों की एक श्रेणी; -स्वर—(पुं.) संगीत के सात स्वर ।

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्तर्षि—(सं. पुं.) ब्रह्मा के सात मानव पुत्र जो ऋषि थे, इनके नाम—मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, प्रत्यू, अंगिरा और यमिष्ठ हैं; (ये स्वयंभूव मनू-नर में थे । गोयहो मन्वन्तर के निर-निद्र सप्तर्षि होते हैं ।)

सप्ताह—(सं. पुं.) सात दिनों का काल, हफ्ता ।
 सप्रमाण—(सं. वि.) प्रामाणिक ।
 सफर—(अ.पुं.) यात्रा, रवानगी, पर्यटन ;
 —मना—(स्त्री.) स्थल-सेना का एक विभाग ।
 सफरदाई—(हिं. पुं.) साज बजानेवाला ।
 सफरी—(अ. वि.) सफर का, सफर-संबंधी ।
 सफल—(सं. वि.) फलयुक्त, अमोघ, सथांक, जिसका कुछ परिणाम हो, कृत-कार्य; —ता—(स्त्री.) पूरा होना, पूर्णता, सिद्धि ।
 सफला—(सं. स्त्री.) पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी ।
 सफलीभत—(सं. वि.) जो सफल या पूरा हुआ हो ।
 सफा—(हिं. वि.) देखें 'साफ' ।
 सफाई—(हिं. स्त्री.) साफ होने की अवस्था, गुण या भाव, स्वच्छता, निर्मलता, अभियुक्त का निर्दोष होने का प्रमाण, कौशल ।
 सफाचट—(हिं. वि.) बिलकुल साफ, पेड़-पौधा आदि उखाड़कर साफ किया हुआ, पूर्णतः मुंडा हुआ (सिर) ।
 सफालू—(हिं. पुं.) देखें 'सफतालू' ।
 सफेद—(फा. वि.) उजला, उज्ज्वल, साफ, नर्मल, गोरा ।
 सफेदा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का उम्दा आम ।
 सफेदी—(फा. स्त्री.) सफेद होने की अवस्था, गुण या भाव, उज्ज्वलता, गोरापन ।
 सब—(हिं. वि.) समस्त, समग्र, कुल, पूरा, समूचा ।
 सबक—(अ. पुं.) पाठ, उपदेश, शिक्षा ।
 सबद—(हिं. पुं.) देखें 'शब्द' ।
 सबब—(अ. पुं.) कारण, हेतु ।
 सबल—(सं. वि.) बलवान्, सैन्ययुक्त ।
 सबार—(हिं. अव्य.) शीघ्र, तुरत ।
 सबीज—(सं. वि.) बीज-सहित ।
 सबूत—(हिं. पुं.) प्रमाण, गवाही ।
 सबेरा—(हिं. पुं.) प्रातःकाल, सबेरा ।
 सबेरे—(हिं. अव्य.) प्रातः समय ।
 सब्ज—(फा. वि.) हरा, हरा-भरा ।
 सब्जी—(फा. स्त्री.) हरियाली, तरकारी, माजी ।
 सभतुंका—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सघवा ।
 सभय—(सं. वि.) भययुक्त ।
 सभा—(सं. स्त्री.) कुछ या बहुत से लोगों का

वैठकर किसी बात पर परामर्श करना, परिषद्, समिति, समूह, झुंड ।
 सभागा—(हिं. वि.) भाग्यवान्, मनोहर ।
 सभागृह—(सं. पुं.) वह स्थान जहाँ किसी सभा या समिति का अधिवेशन होता हो ।
 सभाजन—(सं. पुं.) आदर-सत्कार ।
 सभापति—(सं. पुं.) (सभा समिति आदि का) अध्यक्ष ।
 सभाव—(सं. वि.) तेजस्वी, पराक्रमी ।
 सभासद(दू)—(सं. पुं.) वह जो किसी सभा का सदस्य हो ।
 सभोचित—(सं. पुं.) पण्डित; (वि.) सभा के योग्य ।
 सभ्य—(सं. पुं.) सभासद, सदस्य, वह जिसका आचरण अच्छा हो; (वि.) सभा-संबंधी, शिष्ट, संस्कृत ।
 सभ्यता—(सं. स्त्री.), सभ्यत्व—(सं. पुं.) सभ्य होने का भाव, शिष्टता, भल-मनसी, सज्जनता ।
 सभंत—(सं. पुं.) सीमा-प्रान्त, किनारा; (वि.) सब, कुल ।
 सभंतिक—(सं. अव्य.) सीमा के पास ।
 सभ—(सं. वि.) कुल, समान, तुल्य, बराबर, समतल, जूस (संख्या); (पुं.) गायन के समय वह स्थान जहाँ गाने-बजाने-वाले का सिर आप-से-आप हिल जाता है, ताल के अनुसार निश्चित स्थान, वर्गमूल निकालने की क्रिया में राशि के ऊपर लगाई जानेवाली रेखा, वह अर्थालंकार जिसमें योग्य वस्तुओं के संयोग या संबंध का वर्णन रहता है ।
 सभकक्ष—(सं. वि.) तुल्य, समान ।
 सभकन्या—(सं. स्त्री.) विवाह के योग्य कन्या ।
 सभकर्म—(सं. वि.) जिनके काम या धंधे समान हों ।
 सभकालीन—(सं. वि.) एक ही समय में रहने या होनेवाला ।
 सभकोण—(सं. वि.) ९० अंश का कोण ।
 सभक्ष—(सं. अव्य.) सम्मुख, आँखों के सामने ।
 सभग्र—(सं. वि.) सम्पूर्ण, पूरा ।
 सभचतुष्कोण—(सं. पुं.) वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण समान हों ।
 सभचर—(सं. वि.) समान आचरणवाला ।
 सभचित्त—(सं. पुं.) वह जिसका चित्त सुख-दुःख (दोनों) में समान रहता हो ।
 सभजातीय—(सं. वि.) एक ही जाति का ।
 सभज्ञा—(सं. स्त्री.) कीर्ति, यश ।
 सभज्ञ—(हिं. स्त्री.) ज्ञान, बुद्धि ।
 सभज्ञदार—(हिं. वि.) बुद्धिमान् ।
 सभज्ञदारी—(हिं. स्त्री.) सभज्ञ, ज्ञान, बुद्धि ।

सभक्षना—(हिं. क्रि. स.) किसी बात को अच्छी तरह ध्यान में लाना, विचारना, बोध होना (अर्थ आदि का) ।
 समझाना—(हिं. क्रि. स.) दूसरे को समझने में प्रवृत्त करना ।
 समझौता—(हिं. पुं.) आपस का निवटारा ।
 समतल—(सं. वि.) जिसका तल या सतह बराबर हो ।
 समता, समत्व—(सं. स्त्री., पुं.) समान होने का भाव, बराबरी ।
 समत्रिभुज—(सं. पुं.) वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर हों ।
 समत्सर—(सं. वि.) डाह करनेवाला ।
 समद—(सं. वि.) मदयुक्त, अभिमानी ।
 समदन—(सं. पुं.) संग्राम, युद्ध ।
 समदना—(हिं. क्रि. अ.) प्रेमपूर्वक मिलना ।
 समदर्शन—(सं. वि.) जो सब मनुष्यों को समान दृष्टि से देखता हो ।
 समदृष्टि—(सं. वि.) देखें 'समदर्शन' ।
 समदर्शा—(सं. वि.) जो सब को एक भाव से देखता हो ।
 समद्विभुज—(सं. वि.) दो समान भुजाओं-वाला ।
 समधिगम—(सं. पुं.) भली भाँति समझना ।
 समधियाना—(हिं. पुं.) समधी का घर ।
 समधी—(हिं. पुं.) पुत्र या कन्या का ससुर ।
 समन—(अं. पुं.) न्यायालय की प्रतिवादी आदि के नाम न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने की लिखित सूचना या आदेशपत्र ।
 समनुज्ञा—(सं. स्त्री.) अनुज्ञा, अनुमति ।
 समन्वय—(सं. पुं.) संयोग, मिलाप, अवरोध, कार्य-कारण का निर्वाह ।
 समन्वित—(सं. वि.) संयुक्त, मिला हुआ, बिना रूकावट का ।
 समपाद—(सं. पुं.) वह कविता जिसके चारों चरण समान हों ।
 समभाग—(सं. पुं.) समान भाग ।
 समभुज—(सं. वि.) समान, समतल, बराबर भुजाओंवाला (क्षेत्र) ।
 समय—(सं. पुं.) काल, उपयुक्त वेला, अवसर, अवकाश, संवत्, अन्तिम काल, वाक्य, उपदेश, धर्म, आचार, निर्देश; —ज्ञ—(वि.) समय के अनुसार चलने-वाला, समय का पावद ।
 समर—(सं. पुं.) युद्ध, संग्राम, लड़ाई ।
 समरजित्—(सं. वि.) युद्ध में जीतनेवाला ।
 समरथ—(हिं. वि.) देखें 'समर्थ' ।
 समरपोत—(सं. पुं.) लड़ाई का जहाज ।
 समरभू, समरभूमि—(सं. स्त्री.) लड़ाई का मैदान ।

समरांगण—(सं. पुं.) युद्धस्थल, समरभूमि ।
 समर्थ—(सं. वि.) कम मूल्य का, सस्ता ।
 समर्वन—(सं. पुं.) अर्चन, पूजन ।
 समर्थ—(सं. वि.) बलवान्, सामर्थ्यवाला योग्य, अभिलषित, अनुकूल ।
 समर्थक—(सं. वि., पुं.) समर्थन करनेवाला ।
 समर्थता—(सं. स्त्री.), समर्थत्व—(सं. पुं.) शक्ति, सामर्थ्य ।
 समर्थन—(सं. पुं.) किसी मत की पुष्टि, सामर्थ्य, शक्ति, संभावना, उत्साह, विवेचन ।
 समर्थनीय—(सं. वि.) समर्थन करने योग्य ।
 समर्थित—(सं. वि.) समर्थन किया हुआ, स्थिर किया हुआ, सम्भावित ।
 समर्पक—(सं. वि., वि.) समर्पण करनेवाला ।
 समर्पण—(सं. पुं.) किसी को कोई वस्तु आदरपूर्वक भेंट करना, दान देना, स्थापित करना ।
 समर्पित—(सं. वि.) समर्पण किया हुआ, स्थापित, जिसकी स्थापना की गई हो ।
 समर्थद—(सं. वि.) सीमायुक्त, सच्चरित्र ।
 समल—(सं. वि.) मलिन, मैला ।
 समवकार—(सं. पुं.) एक प्रकार का वीर-रस-प्रधान नाटक जिसमें देवता और असुरों के युद्ध का वर्णन रहता है ।
 समवतार—(सं. पुं.) अवतरण, उतरने की क्रिया, उतरने का स्थान ।
 समवर्ती—(सं. पुं.) यम का एक नाम; (वि.) समान रूप आदि में स्थित ।
 समवस्था—(सं. स्त्री.) तुल्य अवस्था या दशा ।
 समवाय—(सं. पुं.) समूह, नित्य सम्बन्ध, न्याय के अनुसार अवयव और अवयवी का अविच्छेद्य सम्बन्ध ।
 समवायी—(सं. वि.) जिसमें समवाय अथवा नित्य-संबंध हो ।
 समवृत्त—(सं. वि.) विलकुल गोल, संपूर्ण गोलाईवाला; (पुं.) वह छन्द जिसके चारों चरण बराबर हों ।
 समवेक्षण—(सं. पुं.) भली भाँति देखना ।
 समवेत—(सं. वि.) एक में मिला हुआ, संचित; (पुं.) सम्बन्ध ।
 समवेदना—(सं. स्त्री.) सहानुभूति ।
 समशंकु—(सं. पुं.) वह समय जब सूर्य ठीक ऊर्ध्व-विन्दु पर आता है, दोपहर का समय ।
 समशीतोष्ण—(सं. वि.) (जलवायु, तापमान आदि) जो न अधिक ठंडा हो न अधिक गरम; —कटिबंध—(पुं.) पृथ्वी के वे भाग जो उष्ण कटिबंध के उत्तर भाग से उत्तरी धीत-कटिबंध तक और दक्षिणार्ध में अक्षर रेखा से दक्षिणी धीत-कटिबंध के

बीच में पड़ते हैं, (इन स्थानों में न तो बहुत सर्दी पड़ती है और न बहुत गरमी) ।
 समष्टि—(सं. स्त्री.) सामूहिकता, समवेत सत्ता ।
 समसंख्यात—(सं. वि.) समान अंकवाला ।
 समसुप्ति—(सं. पुं.) कल्पान्त, महाप्रलय ।
 समसौरभ—(सं. वि.) जिनमें सदृश या एक-सी गन्ध हो ।
 समस्त—(सं. वि.) समग्र, कुल, संयुक्त, एक में मिलाया हुआ, संक्षिप्त ।
 समस्थली—(सं. स्त्री.) गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश ।
 समस्या—(सं. स्त्री.) किसी श्लोक, छन्द आदि का वह अन्तिम पद जो अनुरूप श्लोक या छन्द बनाने के लिये किसी को दिया जाता है; (इसी के आधार पर वह पूरा श्लोक या छन्द बनाता है), कठिन विषय, कठिन प्रश्न; —पूर्ति—(स्त्री.) छंद के चरण के आधार पर अनुरूप छंद या श्लोक बनाना ।
 समांतर—(सं. पुं.) वे सरल रेखाएँ जो बढ़ाई जाने पर एक-दूसरे से न मिलें ।
 समांश—(सं. पुं.) तुल्य अंश, बराबर टुकड़ा ।
 समांस—(सं. वि.) मांसयुक्त, मांसल ।
 समा—(सं. स्त्री.) वर्ष, साल ।
 समा—(हिं. पुं.) समय, काल ।
 समाई—(हिं. स्त्री.) समाने का भाव, शक्ति, सामर्थ्य ।
 समाकुल—(सं. वि.) संशयित, संदिग्ध, बहुत घबड़ाया हुआ ।
 समाक्रांत—(सं. वि.) व्याप्त, फैला हुआ ।
 समाख्या—(सं. स्त्री.) कीर्ति, यश, संज्ञा, नाम ।
 समाख्यान—(सं. पुं.) वर्णन, व्याख्या ।
 समागत—(सं. वि.) उपरिधत, मिलित, आया हुआ ।
 समागम—(सं. पुं.) आगमन, आना, मिलना, भेंट ।
 समागमन—(सं. पुं.) आना, पहुँचना, भेंट ।
 समाघात—(सं. पुं.) युद्ध, लड़ाई, वध, हत्या ।
 समाचार—(सं. पुं.) उत्तम व्यवहार, संवाद, खबर ।
 समाचार-पत्र—(सं. पुं.) समाचार का पत्र, अखबार ।
 समाच्छन्न—(सं. वि.) आच्छन्न, टाटा हुआ ।
 समाज—(सं. पुं.) मनुष्यों का संगठित समूह, संप, मभा, मनुष्य ।

समाजवाद—(सं. पुं.) वह राजनीतिक सिद्धांत जो वैधानिक उपायों द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति के समान विभाजन का प्रतिपादन करता है ।
 समाजवादी—(सं. पुं., वि.) समाजवाद का समर्थक या अनुयायी ।
 समात्—(सं. स्त्री.) वह जो माता के समान हो ।
 समादर—(सं. पुं.) सम्मान, आदर ।
 समादरणीय—(सं. वि.) आदर-सत्कार के योग्य ।
 समादृत—(सं. वि.) सम्मानित ।
 समादेय—(सं. वि.) आदर-सत्कार करने योग्य ।
 समादेश—(सं. पुं.) आदेश, आज्ञा ।
 समाधान—(सं. पुं.) चित्त को एकाग्र कर ब्रह्म की ओर लगाना, समाधि, किसी प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर, निष्पत्ति, निबटारा, नियम, अन्वेषण, अनुसन्धान, ध्यान, समर्थन, नाटक का एक अंग ।
 समाधि—(सं. स्त्री.) समर्थन, नियम, ध्यान, अंगीकार, काव्य का वह गुण जिसमें दो घटनाएँ दैवयोग से एक ही समय होती हैं, वह अलंकार जिसमें किसी आकस्मिक कारणसे किसी कार्य का सहज में होना वर्णन किया जाता है, योग, एकाग्रता, मोन-भाव, निद्रा, कारण, सामग्री, प्रतिज्ञा, योग की चरमावस्था, (आरंभ में एकाग्रचित्त से धारणा, इनके बाद ध्यान और तदुपरान्त समाधि । इसमें सावक सब प्रकार की चित्त-वृत्तियों से निर्मुक्त होकर एक विशेष प्रकार के आनन्द में मग्न हो जाता है), सब को मिट्टी में गाड़ना ।
 समाधि क्षेत्र—(सं. पुं.) वह स्थान जहाँ मृत साधुओं आदि को गाड़ते हैं ।
 समाधित—(सं. वि.) समाधिपूर्वक, जिनमें समाधि ली हो ।
 समाधित्व—(सं. पुं.) समाधि प्राप्त करने का भाव या यत्न ।
 समाधिरथ—(सं. वि.) समाधि करनेवाले हुए ।
 समाधेय—(सं. वि.) समाधि करने योग्य ।
 समान—(सं. वि.) सम, कुदर, बराबर, मात्र में युक्त; (पुं.) समानता, समता, एक-समान में उपलक्षण मिलनेवाले; —करण—(वि.) एक ही उपकरण-सहायता (उत्तर); —सम—(सं. पुं.) समान भाव में; —सम—(सं. वि.) समान होने ।

भाव या धर्म, तुल्यत्व; -रूप-(वि.) समान आकारवाला; -व्यस्क-(वि.) बराबर उम्र का; -ज्ञय्य-(पुं. वि.) एक ही चारपाई पर सोनेवाला; -शील-(वि.) तुल्य या एक-सा स्वभाववाला।
समाना-(हिं. क्रि. अ.) भरना, अटना।
समानाक्षर-(सं. पुं.) स्वर वर्ण।
समानाधिकरण-(सं. पुं.) व्याकरण में वे शब्द या वाक्यांश जो एक-से कारक की विभक्ति से युक्त हों, समान आधार।
समानार्थ-(सं. वि.) तुल्य अर्थवाला।
समानिका-(सं. स्त्री.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सात अक्षर होते हैं।
समानीत-(सं. वि.) आदर या यत्नपूर्वक लाया हुआ।
समानुपात-(सं. पुं.) दो अथवा अनेक अनुपातों का समानत्व या सम्बन्ध।
समानोदक-(सं. पुं.) जिनके ग्यारहवीं से चौदहवीं पीढ़ी तक के पूर्वज एक हों।
समानोपमा-(सं. स्त्री.) उपमा अलंकार का एक भेद।
समापक-(सं. वि.) समाप्त या पूर्ण करनेवाला।
समापत्ति-(सं. स्त्री.) एक ही समय में एक ही स्थान पर घटित या उपस्थित होना।
समापन-(सं. पुं.) परिच्छेद, समाप्त करना, समाप्ति, वध, समाधान, प्राप्ति।
समापनीय-(सं. वि.) समाप्त करने योग्य।
समापन्न-(सं. वि.) समाप्त किया हुआ, घटित।
समापिका-(सं. स्त्री.) व्याकरण में वह क्रिया जिससे वाक्य का अर्थ पूरा होता है।
समापित-(सं. वि.) समाप्त किया हुआ।
समाप्त-(सं. वि.) जिसका अन्त हो गया हो, जो पूरा हो गया हो।
समाप्ति-(सं. स्त्री.) अवसान, अन्त, समाप्त होने का भाव।
समाभाषण-(सं. पुं.) वातचीत, भाषण।
सामान्याय-(सं. पुं.) समष्टि, समूह, शास्त्र।
समायोग-(सं. पुं.) संयोग, अनेक मनुष्यों का एकत्रित होना, प्रयोजन या उद्देश्य।
समारंभ-(सं. पुं.) आरम्भ।
समारंभण-(सं. पुं.) आलिंगन, आरंभ।
समारोहण-(सं. पुं.) आराधना, सेवा।
समारोह-(सं. पुं.) धूमधाम, तड़क-मड़क, आह्वार, आरोहण, चढ़ना, सम्मत होना।
समार्य-(सं. वि.) समान अर्थयुक्त; (पुं.) पर्याय शब्द।

समालंभ-(सं. पुं.) शरीर पर अंगराग आदि का लेप करना, मारण, वध।
समालाप-(सं. पुं.) अच्छी तरह वात-चीत करना।
समालोच-(सं. पुं.) अच्छी तरह किया जानेवाला आलोचन।
समालोचक-(सं. पुं., वि.) किसी वस्तु के गुण-दोष बतलानेवाला, समालोचना करनेवाला।
समालोचन-(सं. पुं.) गुण-दोष की अच्छी तरह से आलोचना।
समालोचना-(सं. स्त्री.) अच्छी तरह देखना-मालना, (गुण-दोष, ग्रंथ आदि की) विवेचना, आलोचना।
समालोची-(सं. पुं., वि.) समालोचना करनेवाला।
समावत-(सं. पुं.) वापस आना, लौटना।
समावर्तन-(सं. पुं.) वापस आना, वेदाध्ययन के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, इस समय का स्नान और यज्ञ।
समावर्तनीय-(सं. वि.) जो समावर्तन नामक संस्कार करने के योग्य हो।
समाविष्ट-(सं. वि.) प्रविष्ट, जिसका समावेश हुआ हो, जिसका मन एक ओर लगा हो।
समावृत्त-(सं. वि.) पूर्ण रूप से ढपा या छाया हुआ।
समावृत्त-(सं. वि.) विद्याध्ययन के बाद समावर्तन-संस्कार के बाद घर लौटा हुआ।
समावेश-(सं. पुं.) अंतर्भाव, शामिल या अन्तर्गत होना, चित्त को एक ओर लगाना, एक साथ रहना।
समाश्रय-(सं. पुं.) अवलम्बन, रक्षा, सहाय।
समाश्रित-(सं. वि.) अच्छी तरह आश्रित, जिसने आश्रय ग्रहण किया हो।
समाश्लेष-(सं. पुं.) आलिंगन।
समाश्वासक-(सं. पुं.) धीरज देनेवाला।
समाश्वासन-(सं. पुं.) आश्वासन, धीरज।
समास-(सं. पुं.) संग्रह, समाहार, संक्षेप, समर्थन, व्याकरण में दो या अधिक पदों का मिलकर एक पद बनना, (समास छः प्रकार के होते हैं, यथा-द्वन्द्व, बहु-व्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और अव्ययीभाव।)
समासकृत-(सं. वि.) संयुक्त, मिला हुआ।
समासन्न-(सं. वि.) निकटस्थ, पास का।
समासादित-(सं. वि.) प्राप्त, पाया हुआ, लाया हुआ, आक्रान्त, जिस पर आक्रमण किया गया हो, आहत, चुराया हुआ, उद्धृत, लिखा हुआ।

समासीन-(सं. वि.) प्रतिष्ठित, बैठा हुआ।
समासोक्त-(सं. वि.) संक्षेप या थोड़े में कहा हुआ।
समासोक्ति-(सं. स्त्री.) वह अर्थालंकार जिसमें समान लिंग, समान विशेषण, समान कार्य आदि द्वारा किसी प्रस्तुत वर्णन से अप्रस्तुत का ज्ञान होता है।
समाहृत-(सं. वि.) आहत।
समाहरण-(सं. पुं.) देखें 'समाहार'।
समाहर्ता-(सं. पुं.) मिलानेवाला, संघय करनेवाला।
समाहार-(सं. पुं.) संग्रह, समूह, मिलान, राशि, संक्षेप, समास का एक भेद; -द्वन्द्व-(पुं.) द्वन्द्व समास का वह भेद जिसमें उसके पदों के मेल से उनसे विशिष्ट अर्थ सूचित होता है, जैसे-दाल-रोटी, हाथ-पांव इत्यादि।
समाहित-(सं. वि.) स्वीकार किया हुआ, स्थापित, निष्पन्न।
समाहृत-(सं. वि.) संग्रह किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ, संगृहीत।
समाह्वान-(सं. पुं.) पुकार, ललकार।
समिता-(सं. स्त्री.) गेहूँ का महीन चूर्ण, मैदा।
समिति-(सं. स्त्री.) सभा, समाज, संग-साथ, युद्ध, सन्निपात नामक रोग।
सनिद्ध-(सं. वि.) प्रदीप्त, जलता हुआ।
समिध-(सं. पुं.) अग्नि, आग।
समिधा-(हिं. स्त्री.) अग्नि जलाने का काठ, ईंधन, यज्ञ में जलाने की लकड़ी।
समीकरण-(सं. पुं.) तुल्य या बराबर करने की क्रिया, गणित में वह क्रिया जिससे किसी ज्ञात राशि की सहायता से कोई अज्ञात राशि निकाली जाती है।
समीकृत-(सं. वि.) बराबर किया हुआ।
समीक्ष, समीक्षण-(सं. पुं.) अच्छी तरह देखने की क्रिया, अन्वेषण, विवेचन।
समीक्षा-(सं. स्त्री.) अच्छी तरह देखने की क्रिया, अच्छी तरह परीक्षण, आलोचना, सांख्य में बतलाये हुए प्रकृति-पुरुष का भेद, बुद्धि, अहंकार आदि भाव, मीमांसाशास्त्र, आत्म-विद्या, यत्न।
समीक्षित-(सं. वि.) जिसकी समीक्षा की गई हो, आलोचित, अन्वेषित।
समीच-(सं. पुं.) समुद्र, सागर।
समीचक-(सं. पुं.) मैथुन।
समीचीन-(सं. वि.) यथार्थ, ठीक, उचित, न्यायसंगत।
समीप-(सं. वि.) निकट, पास।
समीपग-(सं. वि.) जो समीप हो गया हो।

समीपता—(सं. स्त्री.) निकटता ।
 समीपवर्ती—(सं. वि.) निकट में स्थित, पास का ।
 समीपस्थ—(सं. वि.) पास का ।
 समीर—(सं. पुं.) वायु, हवा, गमी वृक्ष ।
 समीरण—(सं. पुं.) वायु, हवा, पथिक, गन्व, तुलसी ।
 समीहन—(सं. पुं.) विष्णु ।
 समीहा—(सं. स्त्री.) उद्योग, प्रयत्न, अनुसन्धान ।
 समीहित—(सं. वि.) चेटित, अभीष्ट ।
 समुदर—(हिं. पुं.) समुद्र; —फूल—(पुं.) एक प्रकार की औषधि, विवारा; —सोख—(पुं.) एक प्रकार का क्षुप जिसके बीज औषधों में प्रयुक्त होते हैं ।
 समुचित—(सं. वि.) उचित, योग्य, ठीक, उपयुक्त ।
 समुच्चय—(सं. पुं.) समाहार, समूह, राशि, दो अथवा दो से अधिक शब्दों आदि का परस्पर मिलना, साहित्य में वह अलंकार जिसमें हर्ष, विपाद, आश्चर्य आदि अनेक भावों का एक साथ मन में उदित होना वर्णन किया जाता है अथवा जहाँ एक ही कार्य के लिए अनेक उपायों का वर्णन रहता है ।
 समुच्चित—(सं. वि.) ढेर लगाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ ।
 समुच्छेद—(सं. पुं.) ध्वंस, विनाश ।
 समुज्ज्वल—(सं. वि.) बहुत सफेद, चमकता हुआ ।
 समुद्र—(हिं. स्त्री.) वृद्धि ।
 समुत्कण्ठ—(सं. वि.) व्यग्र, घबड़ाया हुआ ।
 समुत्कीर्ण—(सं. वि.) विदीर्ण, छेदा हुआ ।
 समुत्तर—(सं. पुं.) ठीक उत्तर ।
 समुत्थान—(सं. पु.) आरंभ, उठने की क्रिया, उदय, उत्पत्ति, उठाना, रोग की शान्ति ।
 समुत्थित—(सं. वि.) अच्छी तरह उठा हुआ, अदम्य, उत्पन्न ।
 समुत्पन्न—(सं. वि.) उद्गत, प्रदित, उत्पन्न ।
 समुत्पादित—(सं. वि.) जड़ से उखाड़ा हुआ, उन्मूलित ।
 समुत्सर्ग—(सं. पुं.) उन्मार्ग, त्याग ।
 समुत्थय—(सं. पुं.) उठने या उदित होने की क्रिया, मूल, मन्दार ।
 समुदाय—(सं. पुं.) भिन्न-भिन्न वर्गों का समूह, ढेर, झूट, युग, उत्पत्ति ।
 समुदाय—(सं. पुं.) समुदाय ।
 समुदित—(सं. वि.) उठा हुआ, उत्तम, उत्पन्न ।
 समुदीरण—(सं. पुं.) उच्चारण ।

समुदीरित—(सं. वि.) उच्चारण किया हुआ ।
 समुद्गक—(सं. पुं.) एक छन्द का नाम ।
 समुद्गत—(सं. वि.) उत्पन्न, उदित ।
 समुद्गीत—(सं. वि.) ऊँचे स्वर में गाया हुआ ।
 समुद्धत—(सं. वि.) घमंड में फूला हुआ, उजड़्ड ।
 समुद्धरण—(सं. पुं.) उन्मूलन, उखाड़ने की क्रिया, उद्धार ।
 समुद्भव—(सं. पुं.) उत्पत्ति ।
 समुद्भास—(सं. पुं.) प्रकाश, वायु ।
 समुद्यत—(सं. वि.) प्रस्तुत, तैयार ।
 समुद्र—(सं. पुं.) जल का असीम समूह, अम्बुधि, सागर, किसी वस्तु, गुण आदि का आगार या खान; —फल्लोल—(पुं.) सागर की गरज; —कांता—(स्त्री.) नदी; —गुप्त—(पुं.) गुप्तवंशीय एक बड़े पराक्रमी राजा का नाम; —ज—(वि.) मुक्ता, मोती; (वि.) समुद्र में उत्पन्न; —तीर—(पुं.) समुद्र का किनारा; —दयिता—(स्त्री.) नदी; —नदनीत—(पुं.) अमृत, चन्द्रमा; —नेमि—(स्त्री.) पृथ्वी; —पत्नी—(स्त्री.) नदी; —पात—(पुं.) एक प्रकार की लता; —फल—(पुं.) एक प्रकार का सदावहार वृक्ष जिसके फल औषधों में प्रयुक्त होते हैं; —फिन—(पुं.) समुद्र का ठोस जाग; —मंडूकी—(स्त्री.) शूषित, सीप; —मंवन—(पुं.) समुद्र को मयना; —मालिनी—(स्त्री.) पृथ्वी; —यात्रा—(स्त्री.) समुद्र-मार्ग से दूर देग की यात्रा; —यान—(पुं.) जहाज; —धायी—(वि.) समुद्र-यात्रा करनेवाला; —रसना—(स्त्री.) पृथ्वी; —रुदन—(पुं.) समुद्र के जग से बनाया हुआ नमक; —बह्नि—(पुं.) बड़वानल; —वास—(वि.) अग्नि, आग; —वासी—(वि.) समुद्र के किनारे बसनेवाला; —सार—(पुं.) सीप, मोती; —गुन्गा—(स्त्री.) गंगा नदी ।
 समुद्रांत—(सं. पुं.) समुद्र का त्तिनाग ।
 समुद्रांवरा—(सं. स्त्री.) पृथ्वी ।
 समुद्रायणा—(सं. स्त्री.) नदी ।
 समुद्रावरणा—(सं. स्त्री.) पृथ्वी ।
 समुद्रेग—(सं. पुं.) नील उल्लाषा ।
 समुद्रत—(सं. वि.) अति उत्तम, बहुत उंचा, समृद्ध ।
 समुद्रति—(सं. स्त्री.) समुद्र, बड़ा, नगर, उन्मार्ग, उन्मार्ग ।
 समुद्र—(सं. वि.) समुद्र, उन्मार्ग, उन्मार्ग ।

समुच्चयन—(सं. पुं.) ऊपर उठाने या उन्नत करने की क्रिया, लाभ, प्राप्ति ।
 समुदाद—(सं. पुं.) समूह का नारा ।
 समुदाह—(सं. पुं.) ऊंचाई ।
 समुदाये—(सं. वि.) अविकार में करने योग्य ।
 समुन्मुख—(सं. अघ्य.) सामने ।
 समुन्मूलन—(सं. पुं.) निर्मूलन, पूर्ण रूप से नाग ।
 समुपवेश—(सं. पुं.) आदर, सत्कार, बैठने की क्रिया ।
 समुपस्तंभ—(सं. पुं.) संक्षेप करने की क्रिया ।
 समुपत्या—(सं. स्त्री.) समीपता ।
 समुपार्जन—(सं. पुं.) अच्छी तरह उपार्जन, विशेष रूप से प्राप्त करना ।
 समुपालम्भ—(सं. पुं.) क्रोधयुक्त वाक्य, तिरस्कार ।
 समुपेक्षक—(सं. वि.) उपेक्षा करनेवाला ।
 समुपेत—(सं. वि.) समागत, आया हुआ ।
 समुपेषु—(सं. वि.) अच्छी तरह पाने की इच्छा करनेवाला ।
 समुल्लासित—(सं. वि.) आनन्दित ।
 समुल्लास—(सं. पुं.) आनन्द, प्रसन्नता, ग्रन्थ का अध्याय या परिच्छेद ।
 सम्मुलेसन—(सं. पु.) सनन, सोदना, उन्मूलन ।
 समुहा—(हिं. वि.) सम्मुख का, सामने का ।
 समुहाना—(हिं. क्रि. अ.) सामने आना या होना ।
 समुह—(सं. वि.) संनित, ढेर किया हुआ, संशोधित, विदाहित, संगत, ठीक, दमन किया हुआ ।
 समूल—(सं. वि.) मूलगत, जड़वाला, जिनका कोई हिस्सा है; (अघ्य.) मूल बनाया नहीं, जड़ ।
 समूलक—(सं. वि.) समूह, मूल-नदित ।
 समूह—(सं. पुं.) समूह, झूट, ढेर ।
 समूहगव—(सं. पुं.) संशोधन ।
 समूह—(सं. वि.) समूह, मूल-नदित ।
 समूहति—(सं. वि.) समूह, उन्मार्ग, उन्मार्ग ।
 समूहति—(सं. वि.) समूह, उन्मार्ग, उन्मार्ग ।
 समूहति—(सं. वि.) समूह, उन्मार्ग, उन्मार्ग ।

समौरिया—(हि. वि.) समवयस्क, बराबर वय का ।
 सम्—(सं. उप.) पूर्णता, आधिबय आदि द्योतक उपसर्ग ।
 सम्मंतव्य—(सं. वि.) अच्छी तरह विचारने योग्य ।
 सम्मत—(सं. वि.) अभिमत, जिसकी राय मिली हो, सहमत; (पुं.) अनुमति, आज्ञा, सम्मति ।
 सम्मति—(सं. स्त्री.) इच्छा, ऐकमत्य, प्रतिष्ठा, अभिप्राय, मत, अनुमति, आज्ञा, आदेश ।
 सम्मद—(सं. पुं.) आमोद, हर्ष ।
 सम्मन—(हि. पुं.) अदालत की ओर से किसी को न्यायालय में उपस्थित होने की आज्ञा ।
 सम्मर्द—(सं. पुं.) युद्ध, लड़ाई, आपस का विवाद ।
 सम्मर्दन—(सं. पुं.) वासुदेव के एक पुत्र का नाम, अच्छी तरह मलने का कार्य ।
 सम्मा—(सं. स्त्री.) तुल्यता, समानता ।
 सम्माद—(सं. पुं.) उन्माद, पागलपन ।
 सम्मान—(सं. पुं.) प्रतिष्ठा, मान, परिमाण आदि मापना ।
 सम्मानना—(हि. क्रि. स.) आदर-सत्कार करना ।
 सम्माननीय—(सं. वि.) आदर के योग्य ।
 सम्मानित—(सं. वि.) आदर किया हुआ ।
 सम्मान्य—(सं. वि.) आदर करने योग्य ।
 सम्मार्ग—(सं. पुं.) श्रेष्ठ पद, मोक्ष ।
 सम्मार्जन—(सं. पुं.) संशोधन, साफ करना ।
 सम्मार्जनी—(सं. स्त्री.) झाड़ू, वुहारी ।
 सम्मिलन—(सं. पुं.) मिलन, मिलाप, मेल ।
 सम्मिलित—(सं. वि.) युक्त, मिला हुआ ।
 सम्मिश्रण—(सं. पुं.) मिलाने की क्रिया, मिलावट ।
 सम्मुख—(सं. वि., अव्य.) अभिमुख, आगे, सामने (का) ।
 सम्मूढ—(सं. वि.) मुग्ध, निर्वोध, अज्ञान ।
 सम्मृष्ट—(सं. वि.) अच्छी तरह स्वच्छ, या साफ किया हुआ ।
 सम्मेष—(सं. पुं.) मेघपूर्ण आकाश ।
 सम्मेलन—(सं. पुं.) मनुष्यों का एकत्रित समाज, जमघट, सभा, समिति, संगम, मेल ।
 सम्मोह—(सं. पुं.) भ्रम, सन्देह, मूर्च्छा, एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में एक तगण और एक गुरु वर्ण होता है ।
 सम्मोहक—(सं. वि.) लुभानेवाला, संज्ञा-हीन कर देनेवाला ।

निसोथ, काली तुलसी, चीड़ का पेड़ ।
 सम्मोहन—(सं. पुं.) मोहित करने की क्रिया, शत्रु को मोहित करनेवाला एक प्रकार का प्राचीन अस्त्र, कामदेव के पाँच बाणों में से एक बाण का नाम ।
 सम्यक्—(सं. वि.) ठीक, उपयुक्त, पूरा ।
 सम्यक्ज्ञान—(सं. पुं.) पूरा ज्ञान ।
 सम्यक्योग—(सं. पुं.) ध्यान-निविष्ट योग समाधि ।
 सम्राज्ञी—(सं. स्त्री.) सम्राट की पत्नी, राजमहिषी ।
 सम्राट्—(सं. पुं.) राजाधिराज ।
 सयत्न—(सं. वि., अव्य.) यत्नपूर्ण, यत्न-पूर्वक ।
 सयन—(सं. पुं.) बन्धन, विश्वामित्र के पुत्र का नाम, (हि. पुं.) देखें 'शयन' ।
 सयान—(हि. वि.) चतुर, प्राप्तवयस्क ।
 सयानपन—(हि. पुं.) चतुराई, दक्षता ।
 सयाना—(हि. वि.) प्रौढ़ वय का, बुद्धिमान्, धूर्त ।
 सर—(सं. पुं.) सरोवर, तालाब, जल, वाण, गति, पानी का झरना; (फा. पुं.) सिर, चोटी, शीर्ष ।
 सरई—(हि. स्त्री.) सरहरी ।
 सरकंडा—(हि. पुं.) सरपत की जाति का एक पौधा जिसमें गाँठें होती हैं ।
 सरक—(सं. पुं.) सरोवर, तालाब, आकाश, मद्यपान, यात्रियों का दल ।
 सरकना—(हि. क्रि. अ.) रेंगना, किसी ओर हटना, टलना, खिसकना, काम चलना, निर्वाह होना, किसी ओर बढ़ना ।
 सरकार—(फा. स्त्री.) देश का शासन-मंडल, हुकूमत ।
 सरकारी—(फा. वि.) सरकार-संबंधी, राजकीय ।
 सरक्त—(सं. वि.) रक्त से लथपथ ।
 सरग—(हि. पुं.) देखें 'स्वर्ग' ।
 सरगना—(हि. वि.) अगुआ, प्रधान ।
 सरगम—(हि. पुं.) स्वर-ग्राम, संगीत के सातों स्वरों के उतार-चढ़ाव का क्रम ।
 सरधा—(सं. स्त्री.) मधुमक्खी ।
 सरज—(सं. पुं.) नवनीत, मक्खन; (वि.) मलिन, मैला ।
 सरजना—(हि. क्रि. स.) सृष्टि करना, बनाना ।
 सरजीवन—(हि. वि.) जिलानेवाला, उपजाऊ, हरा-भरा ।
 सरट, सरटक—(सं. पु.) कृकलास, गिर-गिट ।
 सरण—(सं. पुं.) गमन, आगे बढ़ना ।

सरणि, सरणी—(सं. स्त्री.) पंक्ति, पगडंडी, लकीर ।
 सरताज—(हि. पुं.) श्रेष्ठ व्यक्ति ।
 सरता-चरता—(हि. पुं.) वांटें, बंटाई ।
 सरतारा—(हि. वि.) निश्चित ।
 सरदल—(हि. पुं.) द्वार का साह ।
 सरदार—(हि. पुं.) नेता, अगुआ, सिलों की पदवी ।
 सरदारनी—(हि. स्त्री.) सरदार की पत्नी ।
 सरदारी—(हि. स्त्री.) सरदार होने की अवस्था या भाव ।
 सरधर—(हि. पुं.) तरकश, तूणीर ।
 सरन—(हि. स्त्री.) देखें 'शरण' ।
 सरनदीप—(हि. पुं.) देखें 'सिंहलद्वीप' ।
 सरना—(हि. क्रि. अ.) काम चलना, सम्पादित होना, हिलना-डोलना, सर-कना, पूरा पड़ना, किया जाना ।
 सरनी—(हि. स्त्री.) मार्ग ।
 सरपट—(हि. स्त्री.) घोड़े की बहुत वेग की चाल या दौड़; (अव्य.) ऐसी चाल में ।
 सरपत—(हि. पुं.) कुश की तरह की एक घास जिसमें बहुत लंबी पत्तियाँ होती हैं जो छप्पर आदि बनाने के काम में आती हैं ।
 सरबंधी—(हि. पुं.) धनुर्धारी ।
 सरब—(हि. वि.) देखें 'सर्व' ।
 सरबस—(हि. पुं.) देखें 'सर्वस्व' ।
 सरम—(हि. स्त्री.) लज्जा ।
 सरमा—(सं. स्त्री.) विभीषण की स्त्री का नाम, देवताओं की एक कुतिया ।
 सरमात्मज—(सं. पुं.) कुत्ते का बच्चा, पिल्ला ।
 सरया—(हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा धान जिसका चावल लाल होता है ।
 सरयू—(सं. स्त्री.) उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नदी का नाम, घाघरा ।
 सरर—(हि. पुं.) वाँस या सरकंडे की पतली छड़ी ।
 सरराना—(हि. क्रि. अ.) हवा की तीव्र गति से सर-सर शब्द उत्पन्न होना ।
 सरल—(सं. पुं.) चीड़ का वृक्ष, देवदार, अग्नि, पक्षी, गंधाविरोजा; (वि.) जो टेढ़ा न हो, सीधा, भोला-भाला, सहर्ष, कपटरहित; -काष्ठ—(पुं.) चीड़ की लकड़ी; -ता—(स्त्री.) सिवाई, सीधापन, सुगमता, सादापन, सचाई; -द्रु—(पुं.) चिरौजी का पेड़; -द्रव—(पुं.) गंधा-विरोजा; -निर्यास—(पुं.) गंधा-विरोजा; -रस—(पुं.) गंधाविरोजा ।
 सरला—(सं. स्त्री.) मोतिया, सफेद निसोथ, काली तुलसी, चीड़ का पेड़ ।

सरलित—(सं. वि.) सीधा किया हुआ ।
 सरवन—(सं. पूं.) अंबक मुनि के पुत्र जो अपने माता-पिता को वहेगी में बैठाकर होया करते थे, श्रवणकुमार ।
 सरवर—(हिं. पूं.) देखें 'सरोवर', तालाव; (स्त्री.) वरावरी ।
 सरवरि—(हिं. स्त्री.) वरावरी, सादृश्य, तुलना ।
 सरवक्र—(हिं. पूं.) संपुट, दीया, कसोरा ।
 सरवान—(हिं. पूं.) तंत्र ।
 सरस—(सं. वि.) रसयुक्त, रसीला, स्वादिष्ट, मधुर, मीठा, हरा, गीला, नया, मनोहर, सुन्दर, भावपूर्ण, सहृदय, रसिक; (पुं.) सरोवर, तालाव, छप्पय का एक भेद ।
 सरसई—(हिं. स्त्री.) सरस्वती नदी, सरस्वती देवी, हारापन, सरसता, आरंभ में फलों के सरसों के तुल्य दाने ।
 सरसठ—(हिं. वि., पूं.) देखें 'सडसठ' ।
 सरसता—(सं. स्त्री.) सरस होने का भाव, स्वाद आदि ।
 सरसना—(हिं. क्रि. अ.) बढ़ना, पनपना, शोभित होना, रसपूर्ण होना, हरा होना, भावावेश में आना ।
 सरसर—(हिं. पूं.) साँप के रेंगने का शब्द, वायु के चलने से उत्पन्न शब्द ।
 सरसरगा—(हिं. क्रि. अ.) वायु का वेग से चलना, सरसर की ध्वनि होना, सनसनाना ।
 सरसराहट—(हिं. स्त्री.) झाड़ू आदि में साँप आदि के रेंगने से उत्पन्न शब्द, वायु के बहने का शब्द, सुरसुराहट ।
 सरसरो—(अ. अव्य.) जल्दी में, बिना मोचे-ममते; (वि.) जल्दी में किया जानेवाला, त्वरित, चलता ।
 सरसाई—(हिं. स्त्री.) सरसना, अधिकता, शोभा ।
 सरसाना—(हिं. क्रि. अ., स.) रसपूर्ण करना, हरामरा करना, सरसना ।
 सरसिका—(सं. स्त्री.) छोटा ताल, बानली ।
 सरसिज—(सं. पूं.) पत्र, कमल; (वि.) तालाव में उत्पन्न होनेवाला ।
 सरसिजोनि—(सं. पूं.) ब्रह्मा ।
 सरसिह—(सं. पूं.) पत्र, कमल ।
 सरसी—(सं. स्त्री.) पुष्करिणी, बावली, ताल, एक प्रकार का वर्षावृत्त, (इसका दूसरा नाम सिंहक या सनिननिधि है); -रह—(पुं.) पत्र, कमल ।
 सरसेटना—(हिं. क्रि. स.) फटकारना, भला-बुरा कहना ।

सरसों—(हिं. स्त्री.) सर्प, एक तेलहन का पीवा जिसके छोटे बोल बीजों से तेल निकाला जाता है ।
 सरसोंहाँ—(हिं. वि.) सरस बनाया हुआ ।
 सरस्वती—(सं. स्त्री.) पंजाब की एक प्राचीन नदी का नाम, शारदा, वाग्देवी, वाणी, विद्या, दुर्गा, ब्राह्मी, गाय, स्त्री, रत्न, सोम लता, एक छन्द का नाम; -पूजा—(स्त्री.) सरस्वती का पूजनोत्सव जो वसन्त पंचमी (माघ शुक्ल पंचमी) को होता है; -व्रत—(पुं.) श्रौपंचमी-व्रत ।
 सरह—(हिं. पूं.) पतंग, फाँतगा, टिटडी ।
 सरहज—(हिं. स्त्री.) साले की स्त्री ।
 सरहरा—(हिं. वि.) सीधा ऊपर गया हुआ, चिकना, जिस पर पैर फिनले ।
 सरहरी—(हिं. स्त्री.) सरपत की जाति का एक पीवा ।
 सरांग—(हिं. स्त्री.) मोटे लोहे का ठीहा जिस पर लोहार पात्र बनाते हैं ।
 सरा—(हिं. स्त्री.) देखें 'सराय' ।
 सराई—(हिं. स्त्री.) शलाका, सलाई, सरकंडे की पतली छड़ी, मिट्टी की कटोरी या दीया, सकोरा ।
 सराग—(हिं. पूं.) लोहे की छड़ या सीकचा ।
 सराजक—(सं. वि.) राजा द्वारा शासित ।
 सराजाम—(हिं. पूं.) सामग्री ।
 सराध—(हिं. पूं.) देखें 'श्राद्ध' ।
 सराना—(हिं. क्रि. स.) किसी काम को पूरा करना ।
 सराप—(हिं. पूं.) देखें 'शाप' ।
 सरापना—(हिं. क्रि. न.) शाप देना ।
 सराफ—(हिं. पूं.) रुपये-पैसे या सोने-चाँदी का लेन-देन करनेवाला महाजन, सोने-चाँदी का व्यापारी, वह दुकानदार जो रुपये, नोट आदि भुनाता है ।
 सराफा—(हिं. पूं.) सराफा, रुपये-पैसे या सोने-चाँदी के लेन-देन का काम, सराफों का बाजार ।
 सराफ़ी—(हिं. स्त्री.) सराफ का काम, सोना-चाँदी या रुपये-पैसे के लेन-देन का व्यापार, महाजनी, वह बट्टा जो नोट, रुपये आदि भुनाने के बदले दिया जाता है ।
 सरायोर—(हिं. वि.) भोगा हुआ ।
 सराय—(फा. स्त्री.) गाँवों का विश्राम-गृह, पत्तय ।
 सराय—(सं. पूं.) पीने का पात्र, भोगा, कटोरा दीया ।
 सरायग, सरायगी—(हिं. पूं.) जैन धर्मावलम्बी, जैनी ।

सरासन—(हिं. पूं.) देखें 'शरामन' ।
 सरासर—(हिं. अव्य.) आटोपान्त, पूर्णतया ।
 सराह—(हिं. स्त्री.) श्लाघा, प्रशंसा ।
 सराहना—(हिं. क्रि. स.) प्रशंसा करना; (स्त्री.) बड़ाई, तारीफ़ ।
 सराहनीय—(हिं. वि.) प्रशंसा करने योग्य, अच्छा, बढ़िया ।
 सरि—(हिं. स्त्री.) सरिता, नदी, समता, वरावरी; (वि.) सद्ग, समान ।
 सरिका—(सं. स्त्री.) मुक्ता, मोती, शीतल, ताल ।
 सरित्—(सं. स्त्री.) नदी ।
 सरिता—(सं. स्त्री.) जल की धारा, नदी ।
 सरित्पति—(सं. पूं.) समुद्र ।
 सरित्सुत—(सं. पूं.) नीप्य ।
 सरिया—(हिं. स्त्री.) सरई, पतली छड़, कोई छोटी मुद्रा ।
 सरियाना—(हिं. क्रि. स.) विखरी हुई वस्तुओं को ढंग से समेटना, इकट्ठा करना, थाक लगाना ।
 सरिल—(सं. पूं.) देखें 'सनिव', जल ।
 सरिवन—(हिं. पूं.) शालपर्ण नामक वृक्ष ।
 सरिवरि—(हिं. स्त्री.) ममता, वरावरी ।
 सरिस—(हिं. वि.) देखें 'सद्ग', समान ।
 सरीखा—(हिं. वि.) तुल्य, नदृज, समान ।
 सरीफा—(हिं. पूं.) एक छोटा वृक्ष जिनका फल बहुत मोठा होता है, शरीफा, श्रीफल ।
 सरीर—(हिं. पूं.) देखें 'जरीर', देह ।
 सरीसृप—(सं. पूं.) कोई रेंगेबाणा जन्तु, साँप, निष्णु का एक नाम; (वि.) रेंगेबाणा ।
 सरुच्—(सं. वि.) भोगायुक्त, भोगिमान् ।
 सरुज—(सं. वि.) रोगग्रस्त, रोगी ।
 सरुप—(सं. वि.) योगपूर्ण, युक्ति ।
 सरुप—(सं. वि.) भालार, नदर, नमान आकारवाला, सुन्दर, सवान्; (हिं. पूं.) देखें 'स्वरा'; -ता—(स्त्री.) -स्व—(पुं.) समानता ।
 सरुपोपमा—(सं. स्त्री.) देखें 'नमानोपमा' ।
 सरुल—(हिं. वि.) उन्न में सान्; भेन बदिमान्, श्रेष्ठ, नमाना ।
 सरुलना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'भिल्लना' ।
 सरुल—(हिं. वि.) देखें 'भिल्ल' ।
 सरुल—(सं. वि.) सरुलता ।
 सरुल—(हिं. पूं.) पात्र में कभी कभी सरुल नामी जिनका पीना सरुल में सरुल ही हवा निकल जाती है, सरुली देखने को देखी भी सोने ।
 सरुले—(हिं. पूं.) पत्र ईशा और शीतल

वृक्ष जो वगीचों में शोभा के लिये लगाया जाता है, वनझाऊ।

सरोई-(हि. पुं.) एक प्रकार का बड़ा या ऊँचा वृक्ष।

सरोग-(सं. वि.) रोगग्रस्त, रोगी।

सरोज-(सं. पुं.) पद्म, कमल; -मुखी-(स्त्री.) कमल के समान मुखवाली स्त्री।

सरोजिनी-(सं. स्त्री.) पद्म, कमल का पौधा, कमलों से भरा हुआ तालाब।

सरोरुह-(सं. पुं.) पद्म, कमल।

सरोरुहासन-(सं. पुं.) पद्मासन।

सरोला-(हि. पुं.) एक प्रकार की मिठाई।

सरोवर-(सं. पुं.) तालाब, पोखरा, झील।

सरोप-(सं. वि.) रोपपूर्ण, कुपित।

सरोही-(हि. स्त्री.) देखें 'सरोही'।

सरो-(हि. पुं.) कटोरा, ढपना, देखें 'सरो'।

सरोता-(हि. पुं.) सुपारी काटने का एक यन्त्र।

सरोती-(हि. स्त्री.) छोटा सरोता, एक प्रकार की पतली ईख।

सर्कस-(अं. पुं.) शारीरिक कौशल, जानवरों के कुछ विशिष्ट खेल आदि का प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन दिखलानेवाली संस्था।

सर्कार, सर्कारी-(हि. वि., स्त्री.) देखें 'सरकार, सरकारी'।

सर्ग-(सं. पुं.) विष्णु, शिव, अनुमति, आज्ञा, प्रकृति, स्वभाव, अध्याय, प्रकरण, परिच्छेद, उत्साह, मोह, मूर्च्छा, परित्याग, संसार की उत्पत्ति, संकल्प, प्रवृत्ति, चेष्टा, प्रयत्न, जीव, प्राणी, गमन, गति, वहाव, मूल, उद्गम, सन्तति, सन्तान; (हि. पुं.) स्वर्ग; -कर्ता-(पुं.) ब्रह्मा; -पताली-(हि. पुं.) ऐंचाताना; वह वैल जिसकी एक सींग ऊपर उठी और दूसरी नीचे झुकी हुई हो; -बंध-(पुं.) वह बड़ा काव्य जो अनेक सर्गों में विभक्त हो।

सर्ज-(हि. पुं.) शल्लकी वृक्ष, बंड़ी जाति का शाल वृक्ष, धूना, राल, सलाई का पेड़।

सर्जन-(सं. पुं.) विसर्जन, त्याग करना, छोड़ना, निकालना, सृष्टि, सर्ग।

सर्जमणि-(सं. पुं.) धूना, गोंद, मोचरस।

सर्जि-(सं. पुं.) सर्जोखार।

सर्जो-(सं. स्त्री.) सर्जो मिट्टी।

सर्जू-(हि. स्त्री.) देखें 'सरजू'।

सर्ता-(सं. पुं.) घोटक, घोड़ा।

सर्प-(सं. पुं.) सरकना, रेंगना, एक म्लेच्छ जाति का नाम, साँप; -काल-(पुं.) गरुड़; -गंधा-(स्त्री.) एक वृक्ष का नाम, नागदमनी; -गति-(स्त्री.) कुटिल गति, कपट की चाल; -घाती-(वि.)

साँप मारनेवाला; -छिद्र-(पुं.) साँप का बिल; -ण-(पुं.) धीरे-धीरे चलना, रेंगना; -तृण-(पुं.) नकुलकंद;

-बंध-(पुं.) साँप का दाँत; -बंधा-(स्त्री.) वृश्चिकाली; -निर्मोचन-(पुं.) साँप की केंचुली; -प्रिय-(पुं.) चन्दन का वृक्ष; -फण-(पुं.) अफीम;

-बंध-(पुं.) कुटिल चाल; -बल-(पुं.) साँप की शक्ति, विष; -बेलि-(स्त्री.) नागवल्ली, पान; -भुज्-(पुं.) मोर; -माली-(पुं.) शिव;

-यज्ञ-(पुं.) राजा जनमेजय का नागों के संहार के लिये किया हुआ यज्ञ;

-राज-(पुं.) शेषनाग; -लता, -बल्ली-(स्त्री.) पान; -विद्या-(स्त्री.) साँप को पकड़ने या वश में करने की विद्या; -शीवं-(पुं.) एक प्रकार की ईंट जो वेदी बनाने के काम में आती है;

-सत्र-(पुं.) सर्प-यज्ञ।

सर्पाक्ष-(सं. पुं.) रुद्राक्ष, सरहटी (एक पौधा)।

सर्पारि-(सं. पुं.) नेवला, गरुड़, मोर।

सर्पावास-(सं. पुं.) चन्दन, सर्प के रहने का स्थान।

सर्पाशन-(सं. पुं.) गरुड़, मोर।

सर्पिणी-(सं. स्त्री.) साँपिन, भुजंगी लता।

सर्पिस-(सं. पुं.) हवि, घृत।

सर्पी-(सं. वि.) धीरे-धीरे चलनेवाला, रेंगनेवाला।

सर्पेष्ट-(सं. पुं.) श्रीखण्ड, चन्दन।

सर्वस-(हि. पुं.) देखें 'सर्वस्व'।

सर्म-(हि. पुं.) लज्जा।

सर्व-(सं. पुं.) शिव, महादेव, शिव की एक भूति, विष्णु, पारा, शिलाजीत, रसवत; (सं. वि.) सम्पूर्ण, समग्र, सब;

-क-(वि.) सकल, समग्र; -कर्ता-(पुं.) ब्रह्मा; -काम-(वि.) सब प्रकार की कामनाओं या इच्छाओं को पूरा करनेवाला; -बद-(वि.) सब कामनाएँ पूरी करनेवाला; -भय-(वि.) सब कामनाओं से युक्त; -कामिक-(वि.) सब विषयों की कामना पूर्ण करनेवाला;

-कामी-(वि.) सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करनेवाला; -कारक-(वि.) सब-कुछ करनेवाला; -कारण-(पुं.) सब का कारण; -कारी-(पुं.) ब्रह्मा;

-काल-(अव्य.) सब समय, सदा; -केसर-(पुं.) मौलसिरी का वृक्ष; -गंध-(पुं.) इलायची, नागकेसर, लवंग, केसर, अगर;

-ग-(पुं.) शिव, ब्रह्मा, आत्मा, भीम के पुत्र का नाम; -गत-(वि.) सर्व-

व्यापी; -गुणी-(वि.) सर्वगुणसम्पन्न; -गुरु-(पुं.) सब का गुरु; -ग्रहरूपी-(पुं.) विष्णु, जनार्दन; -ग्रास-(पुं.) वन्द या सूर्य-ग्रहण जिसमें उनका संपूर्ण मण्डल छिप जाता है; -चारी-(वि.) सर्वव्यापक; (पुं.) शिव; -जन-(पुं.) सब लोग; -प्रिय-(वि.) सब का प्रिय;

-जनीन-(वि.) सर्वजन-संबंधी; -जनीन-(वि.) सब के लिए हितकर; -जय-(पुं.) पूर्ण जय, पूरी जीत; -जित्-(पुं.) काल, मृत्यु; -जीवी-(पुं.) वह जिसके बाप, दादा और परदादा-तीनों जीवित हों;

-ज्ञ-(पुं.) शिव, विष्णु देवता, ईश्वर; (वि.) सब कुछ जाननेवाला; -स्ता-(स्त्री.) सर्वज्ञ होने का भाव; -ज्ञा-(स्त्री.) दुर्गा; -ज्ञाता-(वि.) सब-कुछ जाननेवाला; -तंत्र-(वि.) जिसको सब शास्त्र ज्ञात हों; -तः-(अव्य.) सब ओर, चारों ओर, पूर्ण रूप से

-त्र-(अव्य.) हर जगह, सब स्थान में; -ग-(वि.) व्यापक; (पुं.) वायु; -गामी-(वि.) सर्वव्यापक, वायु,

-था-(अव्य.) सब प्रकार से, सब तरह से, अतिशय, विलकुल, पूर्णतः; -बंधर-(पुं.) शिव, महादेव; -द-(वि.) सब-कुछ देनेवाला; (पुं.) शिव, महादेव;

-दमन-(पुं.) शकुन्तला का पुत्र, भरत; -दशन-(पुं.) जिसकी सब लोगों पर दृष्टि हो; -दर्शी-(वि.) सब-कुछ देखनेवाला; (पुं.) परमेश्वर;

-दा-(अव्य.) सदा, हमेशा; -दुःख-क्षय-(पुं.) सब प्रकार के दुःखों से निवृत्ति, मोक्ष; -देवमय-(वि.) सकल देवताओं के स्वरूपों से युक्त; -देवमुख-(पुं.) अग्नि; -देशीय-(वि.) सब देशों से संबद्ध; -द्वारिक-(वि.) दिग्विजयी;

-धन्वी-(पुं.) कन्दर्प, कामदेव; -धर-(वि.) सब को धारण करनेवाला;

-धातुक-(पुं.) ताम्र, ताँबा; -धाम-(पुं.) जन्मभूमि; -धारी-(पुं.) शिव, महादेव; -नाभ-(पुं.) एक प्रकार का अस्त्र; -नाम-(पुं.) विष्णु, ब्रह्मा, महेश, व्याकरण में वह शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यथा-मै, तू, वह आदि; -नायक-(पुं.) सब का नेता या अग्रणी; -नाश-(पुं.) सत्यानास; -नाशी-(वि.) सब का नाश करनेवाला; -निघन-(पुं.) सब का नाश या वध; -नियंता-(वि.) सब को वश में करनेवाला;

-नियोजक-(पुं.) विष्णु; -पति-(पुं.) विष्णु, सब का स्वामी; -पालक-(वि.) सब का पालन करनेवाला; -पूत-(वि.) सब तरह से पवित्र; -पूरक-(वि.) सब इच्छाएँ पूर्ण करनेवाला; -पूर्व-(अव्य.) सब से पहले; -पूष्ठ-(अव्य.) सब के पीछे; -प्रद-(वि.) सब-कुछ देनेवाला; -प्रिय-(वि.) सब का प्यारा, जो सब को अच्छा लगे; (पुं.) शिवभक्त, महादेव का प्रिय; -भक्ष, -भक्षी -(वि.) सब-कुछ खानेवाला; -भाव-(पुं.) सम्पूर्ण सत्ता या अस्तित्व; -भूत-(पुं.) सब प्राणी, सारी सृष्टि; -०हित-(पुं.) सब प्राणियों को भलाई; -भूतांतक-(पुं.) यम; -भूतात्मक-(वि.) सर्वभूतस्वरूप; -भूतात्मा-(पुं.) सब प्राणियों की आत्मा; -भूताधिपति-(पुं.) विष्णु; -भोगी-(वि.) सब का आनन्द लेनेवाला, सब-कुछ खानेवाला; -मंगला-(स्त्री.) सब प्रकार का मंगल करनेवाली दुर्गा, लक्ष्मी; -मात्रा-(स्त्री.) छन्द का एक भेद; -योनि-(पुं.) सब का कारण; -रक्षण-(पुं.) सब प्रकार से रक्षा करना; -रसा-(स्त्री.) लावे का माँड़; -रुग्नी-(वि.) आडम्बरी, पाखण्डी; -लोकेश, -लोकेश्वर-(पुं.) ब्रह्मा, विष्णु; -बल्लभा-(स्त्री.) कुलटा स्त्री, छिनार; -बादी-(वि.) सब कुछ बोलनेवाला; (पुं.) शिव का एक नाम; -बास-(पुं.) शिव, महादेव; -विज्ञानी-(वि., पुं.) सब विज्ञानों का जाननेवाला; -बिद्-(पुं.) परब्रह्म, परमेश्वर, ओंकार; -विद्य-(वि.) सब विषयों का विद्वान्; -विद्या-(स्त्री.) सब प्रकार की विद्याएँ; -वीर-(वि.) जिसके बहुत-से योग्य पुत्र हों; -वेद-(वि.) सर्वज्ञ; -व्यापक-(वि.) देखें 'सर्वव्यापी'; -व्यापी-(वि.) सब में रहनेवाला; -शक्तिमान्-(वि.) जिसमें सब-कुछ करने का सामर्थ्य हो; (पुं.) परमेश्वर; -ज्ञ-(अव्य.) पूर्ण रूप से; -श्रेष्ठ-(वि.) सब से बड़ा, सब से उत्तम; -श्रैता-(स्त्री.) एक प्रकार का विपैला कीड़ा; -संपन्न-(वि.) सब तरह से सम्पन्न; -संभव-(पुं.) जहाँ से सब की उत्पत्ति होती है; -स-(हिं. पुं.) देखें 'सर्वस्व'; -सत्य-(वि.) यथार्थ; -समता-(स्त्री.)

सब के प्रति समान व्यवहार; -समृद्ध-(वि.) सब तरह से सम्पन्न; -सह-(वि.) सब-कुछ सहनेवाला; -साक्षी-(पुं.) अग्नि, वायु; -साधारण-(वि.) सामान्य, जो सब में पाया जाय; (पुं.) साधारण लोग, जनता; -सामान्य-(वि.) जो सब में सामान्य रूप से पाया जाय; -सिद्धा-(स्त्री.) शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथियाँ; -सिद्धार्थ-(वि.) जिसका सब आशय सिद्ध हुआ हो; -सिद्धि-(पुं.) सब कार्यों और कामनाओं का पूरा होना; -स्व-(पुं.) सम्पूर्ण सम्पत्ति, सब-कुछ, कुल माल-टाल; -हर-(वि.) सब-कुछ हर लेनेवाला; (पुं.) यमराज, काल, शंकर, महादेव; -हारी-(वि.) सब-कुछ हरनेवाला; -हित-(वि.) सब का हितकारक; -हुत-(पुं.) यज्ञ।

सर्वतोभद्र-(सं. वि.) सब प्रकार से कल्याण-प्रद; (पुं.) विष्णु का स्थ, एक प्रकार का चित्रकाव्य, एक प्रकार का पूजा-धार चक्र जिसके ऊपर घटादि स्थापन कर पूजा की जाती है, वह चौकोर गृह या मंदिर जिसके चारों ओर द्वार हों, पूजा के लिये वस्त्र पर बनाया हुआ एक मांगलिक चिह्न, जिसके सिर तथा दाढ़ी-मूँछ के बाल मूँड़े हों, वह पहली जिसमें शब्द के खंडों के भी अलग-अलग अर्थ ग्रहण किये जाते हैं।

सर्वतोभद्रा-(सं. स्त्री.) अमिनय करनेवाली, नटी।

सर्वतोभावेन-(सं. अव्य.) पूर्ण रूप से, भली भाँति।

सर्वतोमुख-(सं. वि.) जिसका मुख चारों ओर हो, व्यापक; (पुं.) जल, आकाश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, स्वर्ग, अग्नि, आत्मा।

सर्वांग-(सं. पुं.) सम्पूर्ण शरीर, सब अवयव, शिव, महादेव; -सुंदर-(वि.) जिसका सम्पूर्ण शरीर सुन्दर हो।

सर्वांतक-(सं. वि.) सब का अन्त करनेवाला।

सर्वातर्यामी-(सं. पुं.) सब के मन की बात जाननेवाला।

सर्वाक्ष-(सं. पुं.) शिवाक्ष, रुद्राक्ष।

सर्वापी-(सं. स्त्री.) शर्वापी, दुर्गा।

सर्वातिथि-(सं. पुं.) वह जो सब का सत्कार करे।

सर्वात्मा-(सं. पुं.) सब की आत्मा, ब्रह्मा, शिव।

सर्वाधिकार-(सं. पुं.) पूर्ण प्रभुत्व, पूरा अधिकार।

सर्वाधिकारी-(सं. पुं.) पूरा अधिकार रखनेवाला।

सर्वाधिपत्य-(सं. पुं.) सब के ऊपर प्रभुत्व।

सर्वानन्द-(सं. वि.) जिसको सभी स्थितियों में आनन्द मिलता हो।

सर्वानुभू-(सं. वि.) सब विषयों का अनुभव करनेवाला।

सर्वाप्ति-(सं. स्त्री.) सब विषयों की प्राप्ति।

सर्वाभाव-(सं. पुं.) सब प्रकार का अभाव।

सर्वाभिसंबन्ध-(सं. वि.) सब को घेरा देनेवाला।

सर्वाभिसार-(सं. पुं.) आक्रमण के लिये सम्पूर्ण सेना की तैयारी।

सर्वार्थ-(सं. पुं.) सकल पदार्थ; -चित्तक-(वि.) सब की चिन्ता करनेवाला; -साधक-(वि.) सब कार्य पूरा करनेवाला; -साधन-(पुं.) सब काम पूरा करनेवाला; -सिद्धि-(स्त्री.) सकल मनोरथों की सिद्धि।

सर्वादिसर-(सं. पुं.) आधी रात।

सर्वाशय-(सं. पुं.) शिव।

सर्वाशी-(सं. वि.) सब-कुछ खानेवाला।

सर्वास्तिवाद-(सं. पुं.) वह दार्शनिक सिद्धान्त जो सब पदार्थों की वास्तविक सत्ता मानता है।

सर्वाह्न-(सं. पुं.) समस्त दिन।

सर्वेश, सर्वेश्वर-(सं. पुं.) सब का स्वामी या मालिक, शिव, ईश्वर, चक्रवर्ती राजा।

सर्वोत्तम-(सं. वि.) सर्वश्रेष्ठ, सब से उत्तम।

सर्वोपधि-(सं. स्त्री.) आयुर्वेद की औपधियों का एक वर्ग जिसके अन्तर्गत दस वृत्तियाँ हैं, यथा-कुष्ठ, जटामासी, हरिद्रा, वच, चन्दन, शैलेय, मुरी, रक्तचन्दन, कपूर और मुस्त।

सर्वप-(सं. पुं.) सरसों, सरसों भर का परिमाण; -संद-(पुं.) एक प्रकार का पौधा जिसकी जड़ विपैली होती है।

सर्वपी-(स्त्री.) सफेद सरसों।

ससों-(हिं. स्त्री.) देखें 'सरसों'।

सलई-(हिं. स्त्री.) शल्लकी वृक्ष, चीड़ का पेड़।

सलक्षण-(सं. वि.) लक्षणयुक्त।

सलग-(हिं. वि.) समूचा, पूरा।

सलज-(हिं. पुं.) पहलू वरफ का पानो।

सलज्ज-(सं. वि.) जिसको लज्जा हो, लज्जावाला।

सलना-(हिं. क्रि. अ., स.) छिद्रना, साला

जाना, छेदकर लकड़ी आदि बैठाया जाना; (पुं.) लकड़ी छेदने का वरमा ।
सलवट—(हि. स्त्री.) देखें 'सिलवट' ।
सलसलाना—(हि. क्रि. अ.) सरसराना, खुजलाना, गुदगुदी होना, गीला होना ।
सलसलाहट—(हि. स्त्री.) खुजली, गुदगुदी ।
सलहज—(हि. स्त्री.) साले की स्त्री, सरहज ।
सलाई—(हि. स्त्री.) धातु की बनी हुई पतली और छोटी तीली, दियासलाई, सालने की क्रिया या भाव, सालने की मजदूरी, चीड़ की लकड़ी; (मुहा.) —फेरना—आँख में सुरमा लगाना ।
सलाजीत—(हि. स्त्री.) देखें 'शिलाजीत' ।
सलाद—(हि. पुं.) (अं. सैलड का अपभ्रंश) गाजर, मूली आदि का सिरके में डाला हुआ अचार ।
सलाम—(अ.पुं.) नमस्कार, प्रणाम, बंदगी ।
सलामत—(अ. स्त्री.) कुशल, बचाव, रक्षा ।
सलामी—(फा. स्त्री.) सलाम करने की क्रिया, मुद्रा आदि ।
सलाम-कराई—(हि. स्त्री.) वह धन जो कन्यापक्षवाले दूल्हे को विवाह में मिलनी के समय देते हैं ।
सलार—(हि. पुं.) एक प्रकार की चिड़िया ।
सलाह—(अ. स्त्री.) राय, मंत्रणा; —कार—(पुं.) सलाह देनेवाला ।
सलिल—(सं.पुं.) जल, पानी, अश्रु; —कुंतल—(पुं.) सेवार; —क्रिया—(स्त्री.) जलांजलि, तर्पण; —चर—(वि.) जलचर; —ज—(पुं.) पद्म, कमल; —द—(पुं.) मेघ, बादल; —निधि—(पुं.) समुद्र, एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में इक्कीस अक्षर होते हैं, (इसका दूसरा नाम सरसी है); —पति—(पुं.) वरुण, समुद्र, सागर; —प्रिय—(पुं.) शूकर, सूअर; —मय—(वि.) जलपूर्ण; —मुच्—(पुं.) मेघ, बादल; —योनि—(पुं.) ब्रह्मा; —राज—(पुं.) सागर, समुद्र ।
सलिलाकर—(सं. पुं.) समुद्र ।
सलिलाधिप—(सं. पुं.) वरुण ।
सलिलार्णव—(सं. पुं.) समुद्र ।
सलिलाशय—(सं. पुं.) तालाव ।
सलिलेद्र—(सं. पुं.) वरुण ।
सलिलौदन—(सं.पुं.) पकाया हुआ भात ।
सलीपर—(अं. पुं.) (अं. स्लीपर का [अपभ्रंश] चप्पल, रेल की पटरियों के नीचे विद्यमान का लकड़ी का मोटा पट्टा, पहिये पर चढ़ाने की हाल ।
सलील—(सं. वि.) लीलायुक्त ।

सलूक—(हि.पुं.) बरताव, व्यवहार, नेकी ।
सल्लोना—(हि. वि.) देखें 'सलोना' ।
सल्लोतर—(हि. पुं.) पशु विशेषतः अश्वों का चिकित्सा-शास्त्र ।
सल्लोतरी—(हि. पुं.) घोड़ों की चिकित्सा करनेवाला, शालिहोत्र ।
सल्लोना—(हि. वि.) नमक मिला हुआ, नमकीन, रसीला, सुन्दर; —पन—(पुं.) सलोना होने का भाव ।
सल्लोनी—(हि. पुं.) हिन्दुओं का वह त्यौहार जो श्रावण मास की पूर्णिमा को पड़ता है, रक्षाबंधन ।
सल्लतनत—(अ. स्त्री.) राज्य, राजत्व, शासन ।
सल्लकी—(सं. स्त्री.) सलाई का वृक्ष ।
सल्लक्ष्य—(सं.पुं.) उत्तम लक्ष्य या लक्षण ।
सल्लम—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का मोटा कपड़ा, गजी, गाढ़ा ।
सल्लू—(हि. पुं.) चमड़े की डोरी ।
सव—(सं.पुं.) यज्ञ, सन्तान, सूर्य, चन्द्रमा ।
सवत (ति)—(हि. स्त्री.) देखें 'सौत' ।
सवत्स—(सं.वि.) जिसके साथ वच्चा हो ।
सवन—(सं.पुं.) यज्ञ, यज्ञ-स्नान, प्रसव, चन्द्रमा, अग्नि, भृगु के एक पुत्र का नाम; —मुख—(पुं.) यज्ञ का आरम्भ ।
सवया, सवस्यक—(सं.वि.) समान वय का ।
सवर्ण—(सं. वि.) सदृश, समान, समान वर्ण या जाति का ।
सवर्णा—(सं. स्त्री.) सूर्य की पत्नी, छाया ।
सवर्ग—(हि. पुं.) देखें 'स्वर्ग' ।
सवा—(हि. वि.) सम्पूर्ण और एक का चतुर्थांशयुक्त, चौथाई-सहित; —ई—(स्त्री.) एक और चौथाई, सवा, जयपुर के महाराजाओं की एक उपाधि ।
सवाद—(हि. पुं.) देखें 'स्वाद' ।
सवादिक—(हि. वि.) स्वाद देनेवाला ।
सवाव—(हि. अ.) स्वर्ग में मिलनेवाला शुभ कर्म का फल, पुण्य, भलाई ।
सवाया—(हि. वि.) सवागुना ।
सवार—(फा. पुं.) घोड़े पर चढ़ा हुआ व्यक्ति, सैनिक आदि ।
सवारना—(हि. क्रि. स.) देखें 'सँवारना' ।
सवारी—(हि. स्त्री.) भाड़े की गाड़ी, रिक्शा, मोटर आदि, सवार होने की क्रिया, कुश्ती का एक दाँव ।
सवाल—(अ. पुं.) प्रार्थना, याचना, अर्जी, गणित का प्रश्न ।
सविकल्प—(सं. वि.) सन्देहयुक्त, संदिग्ध, विकल्पयुक्त; (पुं.) एक प्रकार की समाधि ।
सविकार—(सं.वि.) जिसमें विकार हो ।
सविकाश—(सं.वि.) फैला हुआ, खिला हुआ ।

सविचार—(सं. वि.) विचारपूर्ण ।
सविता—(सं. पुं.) दिवाकर, सूर्य, मदार का पेड़; —पुत्र—(पुं.) शनि, यम आदि; —सुत—(पुं.) शनैश्वर ।
सवित्री—(सं. स्त्री.) प्रसव करनेवाली माता, गौ ।
सविनय—(सं. वि.) विनययुक्त, विनीत; —अवज्ञा—(स्त्री.) राज्य के अन्यायपूर्ण कानून का शान्तिपूर्वक उल्लंघन ।
सविलास—(सं.वि.) भोग-विलास करनेवाला ।
सवेरा—(हि. पुं.) सूर्योदय का समय, प्रातःकाल ।
सवैया—(हि. पुं.) सवा सेर का वाट, वह पहाड़ा जिसमें प्रत्येक संख्या का सवागुना रहता है, वह छन्द जिसके प्रत्येक चरण में सात भगण और एक गुरु वर्ण रहता है, सवाई ।
सव्य—(सं. वि.) वाम, बायाँ, प्रतिकूल, विरुद्ध; (पुं.) विष्णु, यज्ञोपवीत, अंगिरा के एक पुत्र का नाम ।
सव्यचारी—(सं. पुं.) अर्जुन, अर्जुन वृक्ष ।
सव्यभिचार—(सं. वि.) नैयायिक मत से हेत्वाभास का एक भेद ।
सव्यसाची—(सं.पुं.) अर्जुन का एक नाम ।
सव्याधि—(सं. वि.) व्याधिग्रस्त, पीड़ित ।
सव्रत—(सं. वि.) व्रत या नियमयुक्त ।
सशंक—(सं. वि.) शंकायुक्त, भयभीत, डरा हुआ, डरपोक, शंका उत्पन्न करनेवाला ।
सशंका—(हि. क्रि. अ.) शंका करना, डरना ।
सशब्द—(सं. वि.) शब्दयुक्त ।
सशरीर—(सं. वि.) शरीरधारी ।
सशिरस्क—(सं. वि.) मस्तकयुक्त ।
सशोक—(सं. वि.) जिसको शोक या दुःख हो ।
सशोक—(सं. वि.) लक्ष्मीवान्, धनवान् ।
ससंग—(सं. वि.) साथ का, संबद्ध ।
सस—(हि. पुं.) शशि, चन्द्रमा, शशक, खरहा ।
ससक—(हि. पुं.) शशक, खरहा ।
ससत्वा—(सं. स्त्री.) गर्भवती स्त्री ।
ससरना—(हि. क्रि. अ.) सरकना, फिसलना ।
ससि—(हि. पुं.) शशि, चन्द्रमा; —धर—(पुं.) शिव, चन्द्रमा ।
ससी—(हि. पुं.) चन्द्रमा ।
ससुर—(हि. पुं.) पति या पत्नी का पिता, श्वसुर ।
ससुरा—(हि. पुं.) श्वसुर, एक प्रकार की गाली ।

(पुं.) पद्म, कमल; -धा- (अव्य.) हजारों प्रकार से; -धारा- (स्त्री.) हजारों छेद का एक पात्र; -धी- (वि.) बहुत चतुर; -नयन- (पुं.) इन्द्र; -नाम- (पुं.) वह स्तोत्र जिसमें किसी देवता के एक हजार नाम हों; -नेत्र- (पुं.) इन्द्र; -पत्र- (पुं.) कमल-पत्र; -पाद- (पुं.) सूर्य, विष्णु, सारस पक्षी; -बाहु- (पुं.) राजा कृतवीर्य के पुत्र, हैहय; -भुजा- (स्त्री.) दुर्गा की एक मूर्ति का नाम; -मूली- (स्त्री.) बड़ी शतावर; -मौलि- (पुं.) विष्णु; -रश्मि- (पुं.) सूर्य; -लोचन- (पुं.) इन्द्र; -वदत्र- (पुं.) इन्द्र; -शः- (अव्य.) हजारों बार; -शीर्ष- (पुं.) विष्णु ।

सहस्रांशु- (सं. पुं.) सूर्य ।
 सहस्रांशुज- (सं. पुं.) शनि ग्रह ।
 सहस्रा- (सं. स्त्री.) मयूर-शिखा, मोर-शिखा ।
 सहस्राक्ष- (सं. पुं.) इन्द्र, विष्णु ।
 सहस्रानन- (सं. पुं.) विष्णु ।
 सहा- (सं. पुं.) ग्वारपाठा, धीकुआर, ककही नामक पौधा, सेवती, मेहँदी, अगहन का महीना ।
 सहाई, सहाई- (हि. वि.) सहायक; (स्त्री.) सहायता, मदद ।
 सहाउ- (हि. पुं.) देखें 'सहाय' ।
 सहादर- (सं. अव्य.) आदर के साथ ।
 सहाध्ययन- (सं. पुं.) एक साथ पढ़ना ।
 सहाध्यायी- (सं. पुं.) सहपाठी, एक साथ पढ़नेवाला ।
 सहाना- (हि. पुं.) एक प्रकार का राग ।
 सहागुभूति- (सं. स्त्री.) किसी के कष्ट को देखकर स्वयं दुःखी होना ।
 सहापवाद- (सं. वि.) निन्दायुक्त ।
 सहाय- (सं. पुं.) सहायता, आश्रय, भरोसा, सहायक; -क- (वि.) सहायता करनेवाला; -ता- (स्त्री.) आर्थिक अथवा शारीरिक साहाय्य ।
 सहायिनी- (सं. स्त्री.) मदद करनेवाली स्त्री ।
 सहायी- (सं. वि.) सहायता करनेवाला ।
 सहार- (हि. पुं.) सहन करने की क्रिया, सहनशीलता ।
 सहारना- (हि. क्रि. स.) सहन करना ।
 सहारा- (हि. पुं.) सहायता, मदद, आश्रय, आसरा, भरोसा ।
 सहाई- (सं. वि.) प्रेमयुक्त, स्नेहसहित ।
 सहालग्न- (हि. पुं.) हिन्दू ज्योतिषियों के अनुसार वह वर्ष, वे महीने या वे दिन जब विवाह के मुहूर्त हों ।

सहजिन- (हि. पुं.) शोभांजन, एक बड़ा वृक्ष जिसकी फलियों की तरकारी बनती है ।
 सहजानी- (हि. स्त्री.) चिह्न ।
 सहित- (सं. वि.) संयुक्त, मिलित, हितकर, मलाई चाहनेवाला; (अव्य.) साथ, समेत ।
 सहितव्य- (सं. वि.) सहन करने योग्य ।
 सहिथी- (हि. स्त्री.) बरछी ।
 सहिदान- (हि. पुं.), सहिदानी- (हि. पुं., स्त्री.) निशान, पहिचान की वस्तु ।
 सहिष्णु- (सं. वि.) सहनशील, जो सहन कर सके; -ता- (स्त्री.) सहनशीलता ।
 सहूँ- (हि. अव्य.) सम्मुख, सामने ।
 सहृदय- (सं. वि.) दयावान्, दयालु, प्रसन्नचित्त, समझदार, सज्जन, रसिक; -ता- (स्त्री.) सौजन्य, रसिकता, दयालुता ।
 सहेजना- (हि. क्रि. स.) अच्छी तरह जाँचना, संभालना, समझाकर देना ।
 सहेजवाना- (हि. क्रि. स.) सहेजने का काम दूसरे से, कराना ।
 सहेत- (हि. पुं.) नायक-नायिका के मिलने का निर्दिष्ट स्थान ।
 सहेतु, सहेतुक- (सं. वि.) हेतुयुक्त, जिसमें कोई हेतु या कारण हो ।
 सहेरवा- (हि. पुं.) हरसिंघार का वृक्ष ।
 सहेल- (हि. पुं.) वह सहायता जो कृषक अपने भू-स्वामी को खेत जोतने-बोने में देता है ।
 सहेली- (हि. स्त्री.) साथ में रहनेवाली स्त्री, अनुचरी, संगिनी, दासी ।
 सहेया- (हि. वि.) सहन करनेवाला ।
 सहेवित- (सं. स्त्री.) एक काव्यालंकार जिसमें 'सह, संग, साथ' आदि शब्दों का व्यवहार होता है तथा अनेक कार्य एक साथ होते हुए वर्णन किये जाते हैं, (ऐसे अलंकारों में क्रिया प्रायः एक ही रहती है ।)
 सहेड- (सं. पुं.) गर्भवती अवस्था में व्याही हुई कन्या का पुत्र ।
 सहेदर- (सं. पुं.) एक ही उदर से उत्पन्न सन्तान, एक ही माता के पुत्र; (वि.) सगा ।
 सहेर- (हि. पुं.) एक प्रकार का जंगली वृक्ष ।
 सहेर- (सं. वि.) सहने योग्य; -ता- (स्त्री.) सहन ।
 सहेरानि- (सं. पुं.) वंई प्रदेश की एक पर्वतमाला ।
 सहेई- (हि. पुं.) परमेश्वर, स्वामी, पति, फकीरों की एक उपाधि ।
 साँकड़- (हि. पुं.) शृंखला, सीकड़ ।

साँकड़ा- (हि. पुं.) पैर में पहनने का चाँदी का एक प्रकार का आभूषण ।
 साँकर- (हि. स्त्री.) शृंखला, (वि.) तंग, संकरा, दुःखमय ।
 साँकरा- (हि. वि.) संकरा; (पुं.) साँकड़ा ।
 साँकर्य- (सं. पुं.) मिश्रण, मिलावट ।
 साँकल्पित- (सं. वि.) संकल्प-संबंधी ।
 साँकेतिक- (सं. वि.) संकेत-संबंधी ।
 साँकामिक- (सं. वि.) जो शीघ्र संक्रमण करे, छूत से उत्पन्न होनेवाला ।
 साँक्षेपिक- (सं. वि.) संक्षिप्त ।
 साँख्य- (सं. पुं.) महाविष्णु कपिलकृत दर्शन जो प्रकृति को ही संसार का मूल और सत्त्व, रज तथा तम के योग से सृष्टि का विकास होना मानता है; -योग- (पुं.) ज्ञानयोग, ब्रह्मविद्या ।
 साँग- (हि. स्त्री.) भाले के आकार की एक प्रकार की बरछी ।
 साँग- (सं. वि.) अंगयुक्त, सम्पूर्ण ।
 साँगरी- (हि. स्त्री.) एक प्रकार का रंग जिससे कपड़े रंगे जाते हैं ।
 साँगी- (हि. स्त्री.) बरछी, बैलगाड़ी में गाड़ीवान के बैठने का स्थान, इक्के या गाड़ी के नीचे लगी हुई जाली ।
 साँगोपांग- (सं. अव्य.) अंगों और उपांगों सहित ।
 साँग्रामिक- (सं. वि.) युद्ध या संग्राम-संबंधी ।
 साँघाटिका- (सं. स्त्री.) स्त्री-प्रसंग, मैथुन, कुटनी, दूती ।
 साँघात- (सं. पुं.) समूह, दल ।
 साँघातिक- (सं. वि.) हनन करनेवाला, मारक ।
 साँच- (हि. वि.) सत्य, यथार्थ, ठीक; (पुं.) सच्ची बात ।
 साँचला- (हि. वि.) सत्यवादी, सच्चा ।
 साँचा- (हि. पुं.) वह उपकरण जिसमें कोई तरल या गलाया हुआ पदार्थ ढालकर किसी विशेष आकार की कोई वस्तु बनाई जाती है, बेलबूटा छापने का ठप्पा, छापा, किसी वस्तु की छोटी आकृति जो आदर्श के रूप में बनाई जाती है; (मुहा.) साँचे में ढला हुआ-बहुत ही सुन्दर बनावट का ।
 साँचिया- (हि. पुं.) किसी प्रकार का साँचा बनानेवाला ।
 साँची- (हि. पुं.) एक प्रकार का पान; (स्त्री.) पुस्तकों की छपाई का वह प्रकार जिसमें पंक्तियाँ बड़े बल होती, पृष्ठ कम चौड़े और अधिक लंबे होते तथा पन्ने अलग-अलग रहते हैं ।

साँस-(हि. स्त्री.) सन्ध्या, शाम ।
 साँझा-(हि.पुं.) किसी व्यवसाय में हिस्सा, पत्नी, साझा ।
 साँझी-(हि. स्त्री.) मन्दिरों में देवता के आगे भूमि पर फूल-पत्तियों की सजावट ।
 साँट-(हि. स्त्री.) पतली छड़ी, कोड़ा, शरीर पर चावुक, कोड़े आदि की मार का चिह्न या दाग ।
 साँटा-(हि. पुं.) डंडा, ईख, गन्ना, कोड़ा, करगह का वह डंडा जिसकी सहायता से ताने के सूत नीचे-ऊपर होते हैं ।
 साँटिया-(हि. पुं.) डुगडुगी पीटनेवाला ।
 साँटी-(हि. स्त्री.) पतली छोटी छड़ी, बाँस की कमची, शाखा, मेल-मिलाप, बदला, प्रतिकार, टूटे हुए रस्से के खंडों को गाँठ देकर जोड़ने की एक विधि ।
 साँठ-(हि. पुं.) साँटा, सरकंडा, वह लंबा डंडा जिससे पीटकर अन्न के दाने अलग-गये जाते हैं, ईख, गन्ना; -गाँठ-(स्त्री.) मेल-मिलाप, मित्रता, दोस्ती ।
 साँठनी-(हि. क्रि. स.) पकड़े रहना ।
 साँठी-(हि. स्त्री.) पूंजी, मूलधन, गदहपूरना ।
 साँड़-(हि. पुं.) वह घोड़ा या बैल जो वधिया नहीं किया जाता और जोड़ खिलाने के लिये पाला जाता है, वृषोत्सर्ग में छोड़ा हुआ बैल; (वि.) बलिष्ठ, कुकर्मि ।
 साँड़नी-(हि. स्त्री.) ऊँटनी जो तेज चलती और सवारी के काम में आती है ।
 साँड़ा-(हि. पुं.) छिपकली की जाति का एक प्रकार का जंतु ।
 साँड़िया-(हि. पुं.) वेग से चलनेवाला ऊँट, साँड़नी पर सवारी करनेवाला ।
 साँतक-(सं. वि.) संतान-संबंधी ।
 साँतर-(सं. वि.) विरल, सखिद्र, झीना ।
 साँतवन-(सं. पुं.) आशवासन, ढाढ़स, प्रणय, प्रेम, सन्धि, मेल ।
 साँतवना-(सं. स्त्री.) साँतवन ।
 साँतवत-(सं. वि.) जिसे साँतवना दी गई हो ।
 साँथरी-(हि. स्त्री.) चटाई, बिछौना ।
 साँथा-(हि. पुं.) चमड़ा कूटने का लोहे का एक औजार ।
 साँथी-(हि. स्त्री.) ताने के सूतों का नीचे-ऊपर होने की क्रिया ।
 साँद-(हि. पुं.) डेंगुर ।
 साँद-(सं. वि.) स्निग्ध, चिकना, सुन्दर ।
 साँदपद-(सं. पुं.) एक छन्द जिसके प्रति चरण में ग्यारह अक्षर होते हैं ।
 साँदपुष्प-(सं. पुं.) वहेड़ा ।

साँध-(हि. पुं.) लक्ष्य ।
 साँधना-(हि. क्रि. स.) निशाना लगाना, रस्सियों आदि में जोड़ लगाना, मिश्रित करना, मिलाना, सावना, पूरा करना ।
 साँधा-(हि. पुं.) दो रस्सियों को जोड़ने में दी हुई गाँठ ।
 साँध्य-(सं. वि.) संध्या-संबंधी ।
 साँप-(हि. पुं.) एक प्रसिद्ध विषवर लंबा कीड़ा जो पेट के बल भूमि पर रेंगता है, भुजंग, सर्प, बहुत दुष्ट मनुष्य; (मुहा.) कलेजे पर साँप लोटना-ईर्ष्या आदि के कारण चित्त में बहुत दुःख होना; साँप-छछुंदर की दशा-द्विविधा या असमंजस की अवस्था ।
 साँपघरन-(हि. पुं.) शिव, महादेव ।
 साँपा-(हि. पुं.) देखें 'सियापा' ।
 साँपिन-(हि. स्त्री.) साँप की मादा, सर्पिणी ।
 साँप्रत-(सं. अव्य.) इस समय, अभी ।
 साँप्रतिक-(सं. वि.) वर्तमान काल का ।
 साँप्रदायिक-(सं. वि.) संप्रदाय-संबंधी ।
 साँव-(सं. पुं.) जांबवती के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम ।
 साँवरी-(सं. स्त्री.) माया, जादूगरी ।
 साँभर-(हि. पुं.) राजपूताने की एक झील, इसके खारे पानी से बनाया हुआ नमक ।
 साँवक-(हि. पुं.) वह ऋण जो हरवाहों को दिया जाता है, साँवाँ नामक अन्न ।
 साँवत-(हि. पुं.) एक प्रकार का राग ।
 साँवती-(हि. स्त्री.) (बैलगाड़ी, घोड़ा-गाड़ी, इक्के आदि के नीचे लगाई हुई) जाली जिसमें घास रखी जाती है ।
 साँवत्सर, साँवत्सरक-(सं. पुं.) गणक, ज्योतिषी ।
 साँवत्सरिक-(सं. वि.) संवत्सर-संबंधी, वार्षिक; (पुं.) गणक, दैवज्ञ ।
 साँवलताई-(हि. स्त्री.) श्यामता ।
 साँवला-(हि. वि.) श्यामवर्ण का; (पुं.) पति या प्रेमी, श्रीकृष्ण का एक नाम ।
 साँवलपन-(हि. पुं.) साँवला होने का भाव, श्यामता ।
 साँवाँ-(हि. पुं.) कँगनी या चेना की जाति का एक अन्न ।
 साँवाँदिक-(सं. पुं.) नैयायिक; (वि.) संवाद से संबद्ध ।
 साँवाँदिक-(सं. वि.) सन्देश्युक्त ।
 साँत-(हि. स्त्री.) नाक या मुख ने हवा खींचकर फेफड़ों में पहुँचाना तथा फिर बाहर निकालने की क्रिया, श्वास,

दम, अवकाश, छुट्टी, वह महीन दरार जिससे हवा आ-जा सकती है, श्वास का रोग; (मुहा.)-उड़ना-मरण के समय बड़ी कठिनता से साँस चलना; -चड़ना-कठिनता से साँस लेना; -टूटना-बड़ी कठिनाई से साँस लेना; -तक न लेना-विलकुल मौन रहना; -फूलना-जल्दी-जल्दी साँस खींचना और छोड़ना; -भरना-आह भरना; -रहते- जीवित रहते प्राण रहते; उलटी साँस लेना-मरण के समय बड़ी कठिनता से साँस का चलना; लंबी साँस लेना-देर तक साँस लेना ।
 साँसत-(हि. स्त्री.) अधिक कष्ट या पीड़ा, दम घुटने का कष्ट, झंझट ।
 साँसतघर-(हि. पुं.) कारागार में बहुत छोटी तथा अँवरी कोठरी ।
 साँसना-(हि. क्रि. स.) शासन करना, दण्ड देना, कष्ट देना, दुःख पहुँचाना, डाँटना, डपटना ।
 साँसगिक-(सं. वि.) संसर्ग-संबंधी ।
 साँसा-(हि. पुं.) श्वास, साँस, प्राण, जीवन, बहुत कष्ट, चिन्ता, सन्देह, मय ।
 साँसारिक-(सं. वि.) संसार-संबंधी, लौकिक ।
 साँस्कारिक-(सं. वि.) संस्कार से संबद्ध ।
 साँस्थानिक-(सं. वि.) एक ही देश का ।
 साँ-(सं. स्त्री.) गौरी, लक्ष्मी; (हि. अव्य.) तुल्य, समान, सदृश; (पुं.) सप्तक का प्रथम स्वर ।
 साँदत-(सं. स्त्री.) शुभ लग्न, क्षण, मुहूर्त, एक घंटे या अर्धघंटे का समय ।
 साँदयाँ-(हि. पुं.) देखें 'साँई' ।
 साँदर-(हि. पुं.) देखें 'शायर', कवि ।
 साँई-(हि. पुं.) वह धन जो गाने-बजाने-वालों, सवारी होनेवालों आदि को विवाह आदि अवसर पर काम करने के लिए अग्रिम दिया जाता है, वयाना ।
 साँईकाँटा-(हि. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष जिसकी छाल चमड़ा सिलाने के काम में आती है ।
 साँईत-(हि. पुं.) घोड़े की सेवा करने-वाला नाँकर ।
 साँईती-(हि. स्त्री.) साँईस का काम या पद ।
 साँजज-(हि. पुं.) आखेट का पशु ।
 साँकमरी-(हि. पुं.) साँबर झील के आमपास का एक नगर ।
 साँक-(हि. स्त्री.) साँक, दाक; (हि. पुं.) शाक या साग, तरकारी, भाजी ।

साकचेरि—(हि. स्त्री.) मेहेंदी ।
 साकट—(हि. पुं.) शायत मत का अनुयायी,
 जिमने किसी गुरु से दीक्षा न ली हो,
 दुष्ट, पाजी ।
 साकर—(हि. स्त्री.) देखें 'सांकल' ।
 साकल्य—(सं. पुं.) समग्रता, संपूर्णता ।
 साकांक्ष—(सं. वि.) आकांक्षायुक्त, लोभी,
 इच्छुक ।
 साका—(हि. पुं.) संवत्, शाका, प्रसिद्धि,
 यश, कीर्ति का स्मारक, धाक, अवसर,
 यह बड़ा काम जो कर्ता का यश
 दिग्गजाता हो; (मुहा.)—चलाना—धाक
 जमाना ।
 साकार—(सं. वि.) मूर्तिमान्, मूर्त, स्थूल;
 (पुं.) ईश्वर का आकारयुक्त रूप ।
 साकारोपासना—(सं. स्त्री.) ईश्वर की
 मूर्ति की उपासना करना ।
 साकैत—(सं. पुं.) अयोध्या नगरी ।
 साकैतक—(सं. पुं.) अयोध्या में रहने-
 जाना ।
 साकैतन—(सं. पुं.) अयोध्या नगरी ।
 साक्षत—(सं. वि.) अक्षतसहित ।
 साक्षर—(सं. पुं.) शिक्षित, जो लिखना-
 पढ़ना जानता हो ।
 साक्षात्—(सं. अव्य.) प्रत्यक्ष, सम्मुख;
 -करण—(पुं.) प्रत्यक्ष करना; -कार—
 (पुं.) नोट, पदार्थों का वह ज्ञान जो
 इन्द्रियों द्वारा होता है; -कारी—
 (वि. पुं.) नोट करनेवाला ।
 साक्षिता, साक्षित्व—(सं. स्त्री., पुं.) गवाही ।
 साक्षी—(सं. वि., पुं.) (वह) जिसने किसी
 घटना को अपनी आँखों ने देखा हो,
 दर्शन, देखनेवाला, गवाह, साक्षी ।
 साक्ष्य—(सं. पुं.) साक्षी का काम, गवाही ।
 साक्ष—(हि. पुं.) गवाह, गवाही, प्रमाण;
 (स्त्री.) गवाही, श्राक, प्रामाणिकता,
 निन्दन में सारापन या प्रतिष्ठा ।
 साक्षना—(हि. क्रि. अ.) गवाही देना ।
 साक्षर—(हि. वि.) देखें 'साक्षर' ।
 साक्षर—(हि. स्त्री.) देखें 'शाखा' ।
 साक्षी—(हि. पुं.) साक्षी, गवाह, वृक्ष, पेड़;
 (स्त्री.) गवाही, ज्ञान-संबंधी कविता
 का पद ।
 साक्ष—(हि. पुं.) ज्ञान का वृक्ष, समृद्धि ।
 साक्षोचारन—(हि. पुं.) विवाह के समय
 पर तथा धूप के बंग, गौन आदि का
 दंगल करना, गौनोच्चार ।
 साक्षोद—(हि. पुं.) गिहोर वृक्ष ।
 साक्ष—(सं. पुं.) मन्त्रित्व, कर्मत्व ।
 साक्ष—(हि. पुं.) साक, भाजी, सारकारी;

-पात—(पुं.) रूखा-सूखा भोजन ।
 सागर—(सं. पुं.) उदवि, समुद्र, बड़ा
 तालाब, जलाशय, सागर के एक पुत्र
 का नाम; -नामिनी—(स्त्री.) नदी;
 -धरा—(स्त्री.) पृथ्वी; -नेमि—(स्त्री.)
 पृथ्वी; -मेखला—(स्त्री.) पृथ्वी; -वासी—
 (वि.) समुद्र-तट पर रहनेवाला ।
 सागरांबरा—(सं. स्त्री.) पृथ्वी ।
 सागरोदक—(सं. पुं.) समुद्र का जल ।
 सागरालय—(सं. पुं.) वरुण ।
 सागू—(हि. पुं.) ताड़ की जाति का एक
 प्रकार का वृक्ष ।
 सागूदाना—(हि. पुं.) सागू नामक वृक्ष
 के तने के गूदे को पीसकर बनाया
 हुआ दाना ।
 सागौन—(हि. पुं.) एक पेड़ ।
 सागिन—(सं. वि.) जो अग्नि के सहित हो,
 अग्नियुक्त ।
 सागिनक—(सं. वि.) सर्वदा यज्ञ करनेवाला ।
 साग्र—(सं. वि.) समग्र, समस्त, कुल ।
 साग्रह—(सं. वि.) आग्रह से युक्त ।
 साचरी—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 साचार—(सं. वि.) आचारयुक्त ।
 साच्चिव्य—(सं. पुं.) मन्त्रित्व, सहायता ।
 साची कुम्हड़ा—(हि. पुं.) सफेद कोंहड़ा,
 पेठा ।
 साचीकृत—(सं. वि.) टेढ़ा किया हुआ ।
 साज—(सं. पुं.) पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र; (फा. पुं.)
 सामग्री, सामान, सजावट की, सामग्री ।
 साजगिरी—(हि. स्त्री.) सम्पूर्ण जाति का
 एक राग ।
 साजन—(हि. पुं.) स्वामी, पति, प्रेमी,
 ईश्वर, भद्र पुरुष, सज्जन ।
 साजना—(हि. क्रि. स.) सजावट करना ।
 साजवाज—(हि. पुं.) धनिष्ठता, मेल-जोल ।
 साजुज्य—(हि. पुं.) देखें 'सायुज्य' ।
 साक्षा—(हि. पुं.) हिस्सा, साझेदारी,
 हिस्सेदारी ।
 साक्षी—(हि. पुं.) हिस्सेदार ।
 साक्षेदार—(हि. पुं.) हिस्सेदार, साक्षी ।
 साक्षेदारी—(हि. स्त्री.) हिस्सेदारी ।
 साटक—(हि. पुं.) छिलका, भूसी, तुच्छ
 पदार्थ, एक प्रकार का छन्द ।
 साटन—(हि. पुं.) एक प्रकार का बढ़िया
 रेशमी कपड़ा जो कई रंगों का होता है ।
 साटना—(हि. क्रि. स.) दो वस्तुओं को
 गोंद आदि से परस्पर मिलाना, जोड़ना,
 सटाना, चिपकाना ।
 साठ—(हि. वि.) पचास और दस की संख्या
 का; (पुं.) पचास और दस की संख्या,

६०; -नाठ—(वि.) जिसकी सम्पत्ति
 नष्ट हो गई हो, निर्धन, दरिद्र, तितर-
 वितर; -साती—(स्त्री.) देखें 'साढ़े-
 साती' ।
 साठा—(हि. पुं.) ईख, गन्ना, एक प्रकार की
 मधुमक्खी; (वि.) साठ वर्ष के वय का ।
 साठी—(हि. पुं.) एक प्रकार का धान ।
 साड़ा—(हि. पुं.) घोड़ों का एक प्राणघातक
 रोग ।
 साड़ी—(हि. स्त्री.) स्त्रियों के पहनने की
 किनारदार धोती ।
 साढ़साती—(हि. स्त्री.) देखें 'साढ़ेसाती' ।
 साढ़ी—(हि. स्त्री.) आसाढ़ में बोई जाने-
 वाली फसल, खोलाये हुए दूब पर
 जमनेवाली मलाई, साल वृक्ष का गोंद ।
 साढ़ू—(हि. पुं.) साली का पति ।
 साढ़े—(हि. वि.) आषे के साथ ।
 साढ़ेसाती—(हि. स्त्री.) शनि ग्रह का साढ़े
 सात वर्ष, साढ़े सात महीने या साढ़े सात
 दिन की दशा जो अशुभ मानी जाती है ।
 सात—(हि. वि.) पाँच और दो की संख्या
 का; (पुं.) पाँच और दो की संख्या,
 ७; -पाँच—(पुं.) बहाना, धूर्तता; -पूती—
 (स्त्री.) सतपुतिया नामक तरकारी;
 -फेरी—(स्त्री.) विवाह के समय वर-वधू
 का अग्नि का सात बार फेरा करना;
 -समुंदर पार—बहुत दूर ।
 सातला—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का धूहर
 जिसका दूध पीले रंग का होता है ।
 सातिशय—(सं. वि.) अतिशय, बहुत
 अधिक ।
 साती—(सं. स्त्री.) सर्प-दंश की एक
 प्रकार की चिकित्सा ।
 सात्मक—(सं. वि.) आत्मा मे युक्त ।
 सात्म्य—(सं. पुं.) अनुकूलता, सारूप्य ।
 सात्यकि—(सं. पुं.) महाभारत के युद्ध में
 पाण्डवों का पक्ष लेनेवाले एक यादव
 जो श्रीकृष्ण के सारथी थे ।
 सात्वत—(सं. पुं.) बलराम, श्रीकृष्ण,
 विष्णु, यदुवंशी, एक वर्णसंकर जाति ।
 सात्वती—(सं. स्त्री.) शिशुपाल की माता,
 सुमद्रा; -वृत्ति—(स्त्री.) साहित्य के
 अनुसार वह वृत्ति जिसका व्यवहार वीर,
 रौद्र, अद्भुत और शान्त रसों में होता है ।
 सात्विक—(सं. पुं.) ब्रह्मा, विष्णु, वह भाव
 जिसमें सत्त्व गुण प्रबल हो, एक भाव
 जिसमें स्वेद, स्तम्भ, रोमांच,
 स्वरंग, वेपथु, वैवर्ण, अश्रुपात और
 मूर्च्छा के लक्षण दिखाई पड़ते हैं; (वि.)
 सत्त्वगुणयुक्त, सत्त्वगुण-संबंधी ।

सात्विकी—(सं. स्त्री.) दुर्गा, दुर्गा की एक तरह की पूजा।

साथ—(हिं. पुं.) मिलकर या संग रहने का भाव, सहचार, घनिष्ठता, मेल-मिलाप, सहचर, साथी, सर्वदा पास रहनेवाला; (अव्य.) सहित, प्रति, से, (विरुद्ध भाव) से;—ही—(अव्य.) अतिरिक्त, सिवाय;—साथ—(अव्य.) एक साथ; एक साथ—(अव्य.) सब मिलकर।

साथरा—(हिं.पुं.) विस्तर, विछौना, चटाई।
साथी—(सं. पुं.) साथ रहनेवाला, मित्र।
साद—(सं. पुं.) शरण, गति, विपाद, क्षीणता, नाश, हिंसा, अभिलाषा, इच्छा।
सादगी—(फा. स्त्री.) वनावट का अभाव, सरलता, सादापन।

सादन—(सं. पुं.) उच्छेदन, विनाश।
सादर—(सं. वि., अव्य.) आदरपूर्ण, आदरपूर्वक।

सादा—(फा. वि.) विना सजावट या वनावट का, सरल, सीधा, कोरा, मोला।
सादित—(सं. वि.) विध्वस्त, छिन्न-भिन्न।
सादी—(हिं. स्त्री.) शादी, विवाह।

सादूर—(हिं. पुं.) शार्दूल, सिंह।
सादृश्य—(सं. पुं.) एकरूपता, समानता, समान धर्म, बराबरी।

साधंत—(सं. पुं.) भिक्षुक।
साध—(हिं. स्त्री.) अभिलाषा, इच्छा, कामना, गर्भ के सातवें महीने में होनेवाला एक रश्म जिसमें गर्भिणी को उसके संबंधी फल, मिठाई आदि देते हैं; (पुं.) उत्तर-पश्चिम भारत का एक धर्म-सम्प्रदाय, सज्जन, साधु, महात्मा; (वि.) उत्तम, अच्छा।

साधक—(सं. पुं.) योगी, तपस्वी, कारण, दूसरे के स्वार्थसाधन में सहायक; (वि.) सिद्ध करनेवाला, पूरा करनेवाला।

साधन—(सं.पुं.) कार्य आदि संपादित करने की क्रिया, हेतु, कारण, विधान, मृतक-संस्कार, गति, धन, उपकरण, सामग्री, अनुगमन, सैन्य, उपाय, सिद्धि, प्रमाण, युक्ति, उपासना, साधना, मन्त्र आदि सिद्ध करना।

साधनता—(सं. स्त्री.), साधनत्व—(सं.पुं) सिद्ध करने की क्रिया।

साधनवान्—(सं. वि.) साधनयुक्त।

साधनहार—(हिं. वि.) साधनेवाला, सिद्ध करनेवाला।

साधना—(हिं.स.म.) कोई कार्य सिद्ध करना, पूरा करना, मन्त्र प्रमाणित

करना, पक्का करना, ठहराना, नापना, मन्त्र-सिद्धि के लिये उपासना करना, शुद्ध करना, वंश में करना; (सं.स्त्री.) तपस्या, उपासना, सिद्ध करने का उद्योग।

साधनी—(हिं. स्त्री.) राजगीर का भूमि सतह चौरस करने का एक उपकरण।
साधनीय—(सं. वि.) साधना करने योग्य, जो साधा जा सके, सिद्ध करने योग्य, प्राप्त करने योग्य।

साधयितव्य—(सं. वि.) साधने योग्य।

साधयिता—(सं. पुं.) साधनेवाला, साधक।
साधर्म्य—(सं. पुं.) धर्म, गुण आदि की समानता।

साधार—(सं. वि.) आधायुक्त।

साधारण—(सं. वि.) समान, तुल्य, सदृश्य, सामान्य, जिसमें कोई विशेषता न हो, सहज, सार्वजनिक;—तः,—तया—(अव्य.) सामान्य रूप से, बहुधा, प्रायः;—ता—(स्त्री.),—त्व—(पुं.) साधारण होने का भाव;—धर्म—(पुं.) जीवन के सामान्य धर्म, यथा-आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि।

साधिका—(सं.वि.स्त्री.) साधना करनेवाली, गहरी नींद।

साधित—(सं. वि.) सिद्ध किया हुआ, साधा हुआ, शोधित, शुद्ध किया हुआ, दण्ड दिया हुआ, नाश किया हुआ।

साधु—(सं. पुं.) उत्तमकुल में उत्पन्न, मुनि, सज्जन, संत, यति; (वि.) धार्मिक, समर्थ, योग्य, निपुण, उचित, उत्तम, अच्छा, प्रशंसनीय, सच्चा; (मुहा.)—साधु कहना—प्रशंसा करना;—क—(पुं.) कदम का वृक्ष;—कर्म—(पुं.) अच्छा काम;—जात—(वि.) उज्वल, सुंदर;—ता—(स्त्री.), त्व—(पुं.) सज्जनता, भलमनसी, भलाई, सीवापन;—दसौं—(वि.) विवेकी;—दायी—(वि.) उत्तम वस्तु का दान करनेवाला;—धी—(स्त्री.) अच्छी बुद्धि;—पुष्प—(पुं.) उत्तम फूल;—भवन—(पुं.) साधुओं के रहने की कुटी;—भाव—(पुं.) साधुता, सज्जनता;—मती—(स्त्री.) तान्त्रिकों की एक देवी का नाम;—मात्रा—(स्त्री.) उपयुक्त परिमाण;—बाद—(पुं.) प्रशंसा करना;—बादी—(वि.) सन वीननेवाला;—वृत्त—(वि.) अच्छे नरियवाला;—वृत्ति—(स्त्री.) उन्नत जीवित;—साधु—(अव्य.)

सज्जन, मद्र पुरुष, सीधा आदमी।
साधो—(हिं. पुं.) सन्त या साधु का संवोधन कारक-रूप।
साध्य—(सं. पुं.) गण-देवता जो संख्या में बारह हैं, ज्योतिष के अनुसार एक योग का नाम, न्याय में वह तथ्य जिसे प्रमाणित करना हो, सामर्थ्य, शक्ति; (वि.) साधन करने योग्य, सरल, सहज, प्रतिपाद्य, जिसकी अनुमति हो;—ता—(स्त्री.) साध्य का भाव या धर्म;—वसाना,—वसानिका—(स्त्री.) साहित्य में लक्षणा का एक भेद;—सम—(पुं.) न्याय में वह हेतु जो साध्य की तरह प्रमाणित करना होता है।
साध्वस—(सं. पुं.) भय, वास, धमड़ाहट, व्याकुलता।
साध्वी—(सं. स्त्री.) पतिव्रता स्त्री, शुद्ध चरित्रवाली स्त्री, सच्चरित्रा नारी।
सानंद—(सं. वि., अव्य.) आनन्द सहित, आल्हादयुक्त।
सान—(हिं. पुं.) अस्त्रादि की धार पैनी करने का विशेष पत्थर, शाण; (मुहा.)—धरना—सान पर अस्त्र पैना करना।
सानना—(हिं. क्रि. सं.) सम्मिलित करना, मांड़ना, भागी बनाना, लपेटना, गूथना।
सानो—(हिं. स्त्री.) वह चारा जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाया जाता है, एक में मिले हुए कई खाद्य पदार्थ।
सानु—(सं. पुं.) नूर्य, पत्ता, समतल भूमि, पर्वत का गिरार, वन, जंगल, गिरिश्रृंग, मार्ग।
सान्निध्य—(सं. पुं.) सामीप्य, समीपता।
सान्वय—(सं. वि.) अन्वय से युक्त।
साप—(हिं. पुं.) शाप।
सापत्य—(सं. पुं.) सपत्नी-भाव, सौतपन, शत्रु, सौत का लड़का।
सापत्य—(सं. वि.) गन्तानवाला।
सापना—(हिं. क्रि. म.) शाप देना, शानी देना।
सापराध—(सं. वि.) अपराध में सान।
सापेक्ष—(हिं. वि.) दूसरे पर निर्भर रहनेवाला।
साफ—(सं. वि.) स्वच्छ, मरकर, निर्मल, जद, पवित्र, मच्छरित, मगट (मगन), निरपेक्ष या निर्विषय; (मुहा.)—रहना—मगट रूप में रहना, सच बोलना;—गूठना—रहना कठना, निर्दोष कार्य प्रकृत सत्य या सत्य होने;—उचलना—दान-वाच्य रहना;—उचलना—सनाई का भाव रहना।

साधु—(हिं. पुं.) पवित्र पुरुष, सज्जन।

साधु—(सं. पुं.) गण-देवता जो संख्या में बारह हैं, ज्योतिष के अनुसार एक योग का नाम, न्याय में वह तथ्य जिसे प्रमाणित करना हो, सामर्थ्य, शक्ति; (वि.) साधन करने योग्य, सरल, सहज, प्रतिपाद्य, जिसकी अनुमति हो;—ता—(स्त्री.) साध्य का भाव या धर्म;—वसाना,—वसानिका—(स्त्री.) साहित्य में लक्षणा का एक भेद;—सम—(पुं.) न्याय में वह हेतु जो साध्य की तरह प्रमाणित करना होता है।

साध्वस—(सं. पुं.) भय, वास, धमड़ाहट, व्याकुलता।

साध्वी—(सं. स्त्री.) पतिव्रता स्त्री, शुद्ध चरित्रवाली स्त्री, सच्चरित्रा नारी।

सानंद—(सं. वि., अव्य.) आनन्द सहित, आल्हादयुक्त।

सान—(हिं. पुं.) अस्त्रादि की धार पैनी करने का विशेष पत्थर, शाण; (मुहा.)—धरना—सान पर अस्त्र पैना करना।

सानना—(हिं. क्रि. सं.) सम्मिलित करना, मांड़ना, भागी बनाना, लपेटना, गूथना।
सानो—(हिं. स्त्री.) वह चारा जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाया जाता है, एक में मिले हुए कई खाद्य पदार्थ।

सानु—(सं. पुं.) नूर्य, पत्ता, समतल भूमि, पर्वत का गिरार, वन, जंगल, गिरिश्रृंग, मार्ग।

सान्निध्य—(सं. पुं.) सामीप्य, समीपता।

सान्वय—(सं. वि.) अन्वय से युक्त।

साप—(हिं. पुं.) शाप।

सापत्य—(सं. पुं.) सपत्नी-भाव, सौतपन, शत्रु, सौत का लड़का।

सापत्य—(सं. वि.) गन्तानवाला।

सापना—(हिं. क्रि. म.) शाप देना, शानी देना।

सापराध—(सं. वि.) अपराध में सान।

सापेक्ष—(हिं. वि.) दूसरे पर निर्भर रहनेवाला।

साफ—(सं. वि.) स्वच्छ, मरकर, निर्मल, जद, पवित्र, मच्छरित, मगट (मगन), निरपेक्ष या निर्विषय; (मुहा.)—रहना—मगट रूप में रहना, सच बोलना;—गूठना—रहना कठना, निर्दोष कार्य प्रकृत सत्य या सत्य होने;—उचलना—दान-वाच्य रहना;—उचलना—सनाई का भाव रहना।

साधु—(हिं. पुं.) पवित्र पुरुष, सज्जन।

साफा—(हि. पुं.) सिर पर वाँधने की पगड़ी, मुरेठा।

साफी—(हि. स्त्री.) हाथ-मुँह पोंछने की रूमाल, छोटी तौलिया।

सावन—(हि. पुं.) देखें 'सावुन'।

साबर—(हि. पुं.) साँभर मृग का चमड़ा जो बहुत कोमल होता है, थूहर का पौधा, मिट्टी खोदने का एक अस्त्र।

साबल—(हि. पुं.) बरछी, भाला, सावर।

सावस—(हि. पुं.) देखें 'शावास' वाहवाही

देन की क्रिया; (अव्य.) घन्य, वाहवाह।

साविक—(अ. वि.) पिछला, पुराना, गत।

सावित—(अ. वि.) प्रमाणित, सिद्ध, समुचा।

सावदाना—(हि. पुं.) देखें 'सागूदाना'।

सावू(बू)न—(अ. पुं.) शरीर तथा कपड़े साफ करने की वस्तु जो सोडा, तेल आदि के सम्मिश्रण से बनती है।

साभ्रागिका—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द।

सामंजस्य—(सं. पुं.) अनुकूलता, उपयुक्तता, संगति, मेल।

सामंत—(सं. पुं.) किसी राज्य का कोई बड़ा सरदार, कर देनेवाला राजा, वीर, योद्धा, समीपता; **सासंग**—(पुं.) एक प्रकार का सासंग राग।

सामंती—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की रागिनी; (स्त्री.) सामंत का पद।

साम—(सं. पुं.) वेदों के मन्त्र जो यज्ञ में गाकर पढ़े जाते हैं, सामवेद, मधुर भाषण, शत्रु, मीठी-मीठी बातें कहकर अपनी ओर मिलाने की विधि; (हि. पुं.) देखें 'श्याम'; (हि. स्त्री.) 'शाम'।

सामग—(सं. पुं.) सामवेद का ज्ञाता ब्राह्मण, विष्णु।

सामग्री—(सं. स्त्री.) किसी विशेष कार्य में उपयोग आनेवाले पदार्थ, सामान, साधन।

सामग्र्य—(सं. पुं.) अस्त्र-शस्त्र, भण्डार।

सामना—(हि. पुं.) भेंट, किसी वस्तु का अगला भाग, लड़ाई, भिड़ंत, सामने होना, स्त्रियों का परदा न करना; (मुहा.)

करना—भिड़ना, घुष्टतापूर्वक उत्तर देना।

सामनी—(सं. स्त्री.) पशुओं को वाँधने की रस्सी।

सामने—(हि. अव्य.) सम्मुख, सीधे, आगे, उपस्थिति में, मुकाबले या विरोध में।

सामयिक—(सं. वि.) समयोचित, समय के अनुकूल, समय-संबंधी, वर्तमान समय का।

सामरथ्य—(हि. स्त्री.) देखें 'सामर्थ्य'।

सामराधिप—(हि. पुं.) सेनापति।

सामरिक—(सं. वि.) समर-संबंधी।

सामर्थ्य—(हि. वि.) सामर्थ्य रखनेवाला, बलवान्, पराक्रमी।

सामर्थ्य—(सं. पुं., स्त्री.) शक्ति, बल, योग्यता, कोई काम करने की शक्ति; शब्द की व्यंजना-शक्ति जिससे वह अर्थ प्रकट करता है, व्याकरण में शब्दों का परस्पर-संबंध।

सामवाद—(सं. पुं.) प्रिय वचन, मीठी बोली।

सामवायिक—(सं. पुं.) मन्त्री; (वि.) जिसमें नित्य-संबंध हो, समूह-संबंधी।

सामवेद—(सं. पुं.) भारतीय आर्यों के प्राचीन धर्म-ग्रंथ चार वेदों में से तीसरा वेद।

सामवेदिक—(सं. पुं.) सामवेद का अनुयायी ब्राह्मण।

सामसाली—(हि. वि., पुं.) राजनीति के साम, दाम, दण्ड और भेद को जानने-वाला, राजनीतिज्ञ।

सामहि—(हि. अव्य.) सम्मुख, सामने।

सामाँ—(हि. पुं.) देखें 'साँवाँ'।

सामाजिक—(सं. वि.) समाज से संबंध रखनेवाला, समाज-संबंधी, रसज्ञ; **संतंत्र**—(पुं.) समाज-संबंधी नियम।

सामाजिकता—(सं. स्त्री.) लौकिकता।

सामाधान—(सं. पुं.) शमन करने की क्रिया, शान्ति।

सामान—(सं. पुं.) उपकरण, सामग्री, साधनरूप वस्तुएँ।

सामान्य—(सं. पुं.) समानता, सादृश्य, साधारण कार्य, वह काव्यालंकार जिसमें अनेक वस्तुओं का समान धर्म वर्णन किया जाता है, वह गुण जो सामान्य रूप से किसी जाति की सब व्यक्तियों, वस्तुओं आदि में पाया जाय; (वि.)

जिसमें कोई विशेषता न हो, साधारण, तुच्छ, मामूली, समान, समग्र; **संतः**—**तया**—(अव्य.) साधारणतः; **संविष्यत्**—(पुं.)

व्याकरण में संविष्य काल की क्रिया का साधारण रूप; **संभूत**—(पुं.) भूत काल की क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का केवक भूतकालिक रूप प्रयुक्त होता है;

जैसे—गया, उठा आदि; **संलक्षण**—(पुं.) वह गुण या चिह्न जिससे किसी जाति के सब पदार्थों का ज्ञान होता है;

संवचन—(पुं.) साधारण कथन या वाक्य; **संवर्तमान**—(पुं.) वर्तमान काल की क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होना व्यक्त होता है;

संविधि—(स्त्री.) साधारण नियम,

शिक्षा आदि; यथा—चोरी मत करो, किसी को कष्ट मत दो आदि।

सामान्यतोद्दष्ट—(सं. पुं.) तर्क या न्याय-शास्त्र के अनुसार अनुमान-संबंधी एक प्रकार की भूल, (ऐसी भूल तब होती है जब ऐसे पदार्थों के आधार पर अनुमान किया जाता है जो न कार्य हों, न कारण।)

सामान्या—(सं. स्त्री.) साधारण नायिका, वेश्या।

सामासिक—(सं. वि.) समास से संबंध रखनेवाला।

सामि—(सं. स्त्री.) निन्दा।

सामियाना—(हि. पुं.) देखें 'शामियाना'।

सामिल—(हि. वि.) देखें 'शामिल'।

सामिष—(सं. वि.) मछली, मांस आदि के साथ (भोजन)।

सामी—(हि. पुं.) देखें 'स्वामी'; (स्त्री.) शामी।

सामीची—(सं. स्त्री.) प्रार्थना, स्तुति।

सामीष्य—(सं. पुं.) समीप होने का भाव, निकटता, समीपता, पड़ोस।

सामुञ्जि—(हि. स्त्री.) देखें 'समञ्ज'।

सामुदायिक—(सं. वि.) समुदाय-संबंधी।

सामुद्र—(सं. पुं.) समुद्र-जल से निकाला हुआ नमक, समुद्रफेन, शरीर के चिह्न, सामुद्रिक व्यापार करनेवाला; (वि.)

समुद्र-संबंधी।

सामुद्रिक—(सं. वि.) समुद्र-संबंधी; (पुं.) फलित ज्योतिष का वह भाग जिसमें

हाथ, पैर, ललाट आदि पर की रेखाओं से तथा शरीर के अन्य चिह्न देखकर मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान का शुभाशुभ फल जाना जाता है।

सामुह्य—(हि. अव्य.) आगे, सामने।

सामुह्य—(हि. अव्य.) सामने।

सामूहिक—(सं. वि.) समूह-संबंधी।

सामोद—(सं. वि.) आनन्दयुक्त।

सामोद्भव—(सं. पुं.) हस्ती, हाथी।।

साम्य—(सं. पुं.) समता, तुल्यता, बराबरी।

साम्यवाद—(सं. पुं.) कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धान्त जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना है।

साम्यावस्था—(सं. स्त्री.) समान अवस्था, वह अवस्था जिसमें सत्त्व, रज और तम—तीनों गुण बराबर हों।

साम्राज्य—(सं. पुं.) वह राज्य जिसके अधीन बहुत-से देश हों और जिसमें एक सम्राट् का शासन हो, आधिपत्य, पूर्ण

अधिकार; -वाद- (पं.) साम्राज्य को बढ़ाते रहने का सिद्धान्त, सार्वभौम सत्ता; -वादी- (वि., पं.) साम्राज्यवाद का, समर्थक या अनुयायी ।

सायं- (सं. वि.) संध्या-संबंधी; (पं.) दिन का अन्तिम भाग; -काल- (पं.) संध्या समय; -कालीन- (वि.) संध्या समय का; -गृह- (पं.) वह परिव्राजक जो संध्या समय जहाँ पहुँचता है वहीं ठहर जाता है; -तन- (वि.) संध्या के समय का; -प्रातः- (अव्य.) सवेरे तथा संध्या को; -संध्या- (स्त्री.) वह उपासना जो सायंकाल के समय की जाती है ।

सायक- (सं. पं.) बाण, तीर, तलवार, एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर होते हैं ।

सायण- (सं. पं.) वेदों के एक सुप्रसिद्ध भाष्यकार ।

सायन- (सं. पं.) सूर्य की एक स्थिति जिसमें अयन (ग्रह-कक्षों का संपात) हो ।

सायर- (हि. पं.) सागर, समुद्र, ऊपरी भाग, वह भूमि जिसकी आय पर कर नहीं देन: पड़ता, फुटकर, एक प्रकार का घान ।

साया- (हि. पं.) स्त्रियों का साड़ी के नीचे पहनने का एक वस्त्र; (फा. पं.) छाया, छाँह, परछाई, संरक्षण, आश्रय, कृपा ।

सायास- (सं. वि.) कष्टसहित ।

सायाह्न- (सं. पं.) दिन के अन्तिम तीन मुहूर्त, संध्या ।

सायुज्य- (सं. पं.) सादृश्य, अभेद, एकत्व, पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक जिसमें मत्त पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाता है ।

सारंग- (सं. पं.) कोयल, बाज पक्षी, चातक पक्षी, लवा पक्षी, खंजन, कौआ, कबूतर, चित्र मृग, हरिण, हाथी, छाता, राजहंस, शंभु, शिव. दीपक, बाण, तीर, जल, समुद्र, श्रीकृष्ण का एक नाम, विष्णु का वनपुत्र, सूर्य, भौरा, घोड़ा, रात्रि मेघ, ज्योति, पृथ्वी, फूल, कपूर, चन्दन, शंख, पद्म, चन्द्रमा, सुवर्ण, आभरण, कामदेव, महीन वस्त्र, केश, मोर, विजली, सम्पूर्ण जाति का एक राग, हल, मेढक, आकाश, मोती, नक्षत्र, हाथ, स्तन, छप्पय छन्द का एक भेद, एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में बाईस अक्षर होते हैं, एक सुगन्धित

द्रव्य, शोभा, भूमि, सर्प, स्त्री, नारी, दिन, खड्ग, एक प्रकार की मधुमक्खी, सारंगी नामक वाद्ययन्त्र; (वि.) सुन्दर, सुहावना, रंगा हुआ; -चर- (पं.) काँच, शीशा; -पाणि- (पं.) विष्णु; -लोचना- (स्त्री.) मृगयनी ।

सारंगा- (हि. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी नाव जो एक ही लकड़ी की बनी होती है, एक रागिनी का नाम ।

सारंगिक- (सं. पं.) व्याघ्र, चिड़ीमार, एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में नौ अक्षर होते हैं ।

सारंगिया- (हि. पं.) सारंगी बजानेवाला ।

सारंगी- (हि. स्त्री.) एक प्रकार का प्रसिद्ध बाजा ।

सारंड- (सं. पं.) साँप का अंडा ।

सार- (सं. पं.) सत, जल, पानी, मक्खन, अमृत, जंगल, बल, अमिप्राय, निष्कर्ष, मज्जा, वायु, द्रव्य, अस्थि, कपूर, तलवार, क्वाथ, काढ़ा, मूंग, अनार का पेड़, चिरौजी का वृक्ष, परिणाम, फल, लकड़ी का हीर, जुआ खेलने का पासा, दूध की साढ़ी, मलाई, वह अर्थालंकार जिसमें उत्तरोत्तर वस्तुओं का उत्कर्ष या अपकर्ष वर्णन किया जाता है, एक प्रकार का मानिक छन्द, स्वाद, गोशाला, बाड़ा; (वि.) उत्तम, मुख्य, परमावश्यक, दूढ़ ।

सार- (हि. पं.) पत्नी का भाई, साला, लोहा ।

सारखा- (हि. वि.) समान, सदृश ।

सारगंध- (सं. पं.) चन्दन ।

सारण- (सं. पं.) अतिसार रोग, आँवला ।

सारंगिक- (सं. पं.) पथिक, बटोही ।

सारणी- (सं. स्त्री.) प्रसारणी, छोटी नदी ।

सारतक- (सं. पं.) केले का पौधा, खैर का वृक्ष ।

सारता- (सं. स्त्री.) सार का भाव या धर्म ।

सारथि, सारथी- (सं. पं.) रथ हाँकनेवाला ।

सारद- (हि. स्त्री.) शारदा, सरस्वती; (वि.) शरद-संबंधी ।

सारदा- (हि. स्त्री.) देखें 'शारदा' ।

सारदी- (हि. वि.) देखें 'शारदीय' ।

सारदूल- (हि. पं.) देखें 'शार्दूल' ।

सारद्रुम- (सं. पं.) खैर का पेड़ ।

सारना- (हि. क्रि. अ.) पूर्ण करना, समाप्त करना, साधना, बनाना, देख-रेख करना, सँभालना, सुशोभित करना, सुंदर बनाना, रक्षा करना, आँखों में अंजन आदि लगाना ।

सारनाय- (हि. पं.) बनारस से चार मील

उत्तर-पश्चिम में स्थित एक स्थान जहाँ बुद्ध का एक मन्दिर है तथा दो प्राचीन बौद्ध स्तूप हैं ।

सारभाटा- (हि. पं.) समुद्र की वह वाढ़ जिसमें पानी पहले बढ़कर तट या किनारे से आगे बढ़ जाता और कुछ देर बाद पीछे हट जाता है ।

सारभांड- (सं. पं.) व्यापार की बहु-मूल्य वस्तुएँ, कोष ।

सारभत- (सं. वि.) सर्वोत्तम, श्रेष्ठ ।

सारमेय- (सं. पं.) कुक्कुर, कुत्ता, सरमा की सन्तान ।

साररूप- (सं. वि.) सर्वोत्तम, मुख्य ।

सारल्य- (सं. पं.) सरल होने का भाव, सरलता ।

सारवती- (सं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द जिसमें तीन भ्रगण और एक गुरु वर्ण होता है ।

सारवजित- (सं. वि.) जिसमें कोई सार या तत्त्व न हो, निःसार ।

सारवस्तु- (सं. पं.) मूल्यवान वस्तु ।

सारस- (सं. पं.) पद्म, कमल, झील का पानी, स्त्रियों का कटिभूषण, चन्द्रमा, छप्पय का एक भेद, हंस, एक प्रसिद्ध लंबी टाँगोंवाला पक्षी ।

सारसन- (सं. पं.) तलवार की पेट्टी, कटिद्वय ।

सारसी- (सं. स्त्री.) आर्या छन्द का एक भेद जिसमें पाँच गुरु और अड़तालीस लघु मात्राएँ होती हैं, मादा सारस पक्षी ।

सारसुता- (हि. स्त्री.) यमुना ।

सारसुती- (हि. स्त्री.) देखें 'सरस्वती' ।

सारसंधव- (सं. पं.) सेंधा नमक ।

सारस्वत- (सं. पं.) दिल्ली के उत्तर-पश्चिम का वह भाग जो सरस्वती नदी के तट पर है, इस देश के निवासी ब्राह्मण, एक प्रसिद्ध व्याकरण; (वि.) सरस्वती-संबंधी ।

सारंश- (सं. पं.) संक्षेप, सार, तात्पर्य, परिणाम, उपसंहार, परिशिष्ट ।

सारा- (सं. स्त्री.) शूहर, केला, दूब; (पं.) एक प्रकार का अलंकार जिसमें एक वस्तु दूसरे से बढ़कर कही जाती है, साला; (हि. वि.) सम्पूर्ण, समूचा, पूरा ।

सारावती- (सं. स्त्री.) एक प्रकार का छन्द जिसको सारावली भी कहते हैं ।

सारि- (सं. पं.) पासा या चौपड़ की गोटी

सारिउ- (हि. स्त्री.) मैना पक्षी ।

सारिक- (सं. पं.), सारिका- (सं. स्त्री.) पक्षी ।

सारिखा—(हिं.वि.) सरीखा, तुल्य, समान ।
 सारिणी—(सं. स्त्री.) सहदेई, महाबला,
 दुरालभा, प्रसारिणी, लाल पुनर्नवा ।
 सारिवा—(सं. स्त्री.) अनन्तमूल नामक लता ।
 सारिष्ट—(सं. वि.) सब से सुन्दर, सब से
 श्रेष्ठ ।
 सारी—(सं. स्त्री.) सारिका पक्षी, मैना ।
 सारूप्य—(सं. पुं.) एक प्रकार की मुक्ति
 जिसमें उपासक अपने उपास्य देवता का
 रूप प्राप्त कर लेता है, समानरूप होने
 का भाव, एकरूपता ।
 सारो—(हिं. पुं.) एक प्रकार का अग-
 हनिया धान ।
 सारोपा—(सं. स्त्री.) साहित्य में वह लक्षणा
 जिसमें एक पदार्थ में दूसरे का आरोप
 किया जाता है ।
 सार्थ—(सं. पुं.) वनियों का समूह; (वि.)
 अर्थसहित; -क—(वि.) अर्थयुक्त,
 सफल, सिद्ध, उपकारी, गुणकारी;
 -०ता—(स्त्री.) सफलता; -पति—(वि.)
 विदेशों से व्यापार करनेवाला; -भूत्—
 (पुं.) वणिक्, बनिया; -वत् (वान्)—
 (वि.) अर्थसहित, ठीक-ठीक; -वाह—
 (पुं.) वणिक्, बनिया ।
 सार्दूल—(हिं. पुं.) देखें 'शार्दूल', सिंह ।
 सार्द्र—(सं. वि.) आर्द्र, भीगा हुआ, गीला ।
 सार्ध—(सं. वि.) अर्धयुक्त, जिसमें पूरे
 के अतिरिक्त आधा और भी मिला हो ।
 सार्व—(सं. वि.) सब से संबंध रखनेवाला;
 -कामिक—(वि.) सब काम करने-
 वाला; -काल—(वि.) सब समय
 होनेवाला; -कालिक—(वि.) जो सब
 कालों में होता है; -गुणिक—(वि.)
 सकल गुण-संबंधी; -जनिक—(वि.)
 सर्वसाधारण-संबंधी; -जनौन—(वि.)
 सब जगों से सम्बन्ध रखनेवाला;
 -जन्य—(वि.) जिससे सब लोगों का
 हित हो; -देशिक—(वि.) सब देशों का;
 -भौतिक—(वि.) सब भूतों से सम्बन्ध
 रखनेवाला; -भौम—(पुं.) सम्राट्,
 चक्रवर्ती राजा; (वि.) सारी पृथ्वी का
 शासन करनेवाला; -राष्ट्रीय—(वि.)
 सब राष्ट्रों से सम्बन्ध रखनेवाला;
 -लौकिक—(वि.) सर्वत्र प्रसिद्ध, सब लोगों
 से सम्बन्ध रखनेवाला; -वर्णिक—
 (वि.) सब वर्णों से सम्बन्ध रखने-
 वाला; -वेद्य—(वि.) सर्व विद्यायुक्त;
 -वैदिक—(वि.) सब वेदों से सम्बन्ध
 रखनेवाला; -त्सेनी—(स्त्री.) भरत की
 कन्या का नाम ।

सार्वत्रिक—(सं. वि.) सब स्थानों से संबंध
 रखनेवाला ।
 साल—(सं. पुं.) एक प्रकार की मछली,
 राल, धूना, एक प्रकार का बड़ा वृक्ष,
 प्राकार, परकोटा, प्राचीर, भीत, गढ़;
 (हिं.पुं.) शाल, छेद, वह छेद जिसमें चूल
 बैठाई जाती है, घाव, दुःख, कष्ट;
 (फा. पुं.) वर्ष, १२ महीने की अवधि;
 -गिरह—(फा. स्त्री.) वर्ष-तिथि, वार्षिक
 जन्म-दिवस; -व-साल—(फा. अव्य.)
 प्रतिवर्ष ।
 सालंग—(सं. पुं.) संगीत के तीन प्रकार के
 रागों में से एक जो विलकुल शुद्ध हो
 परन्तु जिसमें किसी राग का आभास
 जान पड़ता हो ।
 सालई—(हिं. स्त्री.) देखें 'सलई' ।
 सालक—(हिं. वि.) सालनेवाला, दुःख
 देनेवाला ।
 सालग्राम—(हिं. पुं.) देखें 'शालग्राम' ।
 सालग्रामी—(हिं. स्त्री.) गण्डक नदी ।
 सालन—(हिं. पुं.) मांस, मछली या शाक-
 भाजी की मसालेदार तरकारी ।
 सालना—(हिं. क्रि. सं.) चुभाना, गड़ाना, छेद
 में बैठाना, पीड़ा देना, दुःख पहुँचाना ।
 सालनिर्यास—(सं. पुं.) राल, धूना ।
 सालपर्णी—(हिं. स्त्री.) शालपर्णी, सरि-
 वन ।
 सालभंजिका—(सं. स्त्री.) गुड़िया, पुतली ।
 सालम दिस्त्री—(हिं. स्त्री.) सुधामूली, एक
 पौधा जिसका कन्द कसेरु के समान
 होता है, (इसका प्रयोग पुष्टिकर औषधों
 में होता है) ।
 सालरस—(सं. पुं.) राल, धूना ।
 सालस—(सं. पुं.) दो पक्षों के झगड़े निव-
 टानेवाला, पंच ।
 सालसा—(हिं. पुं.) रक्तशोधक औषधि
 विशेष, रक्तशोधक औषध ।
 साला—(सं. स्त्री.) शाला, गृह, घर; (हिं.
 पुं.) पत्नी का भाई, एक प्रकार की
 गाली, मैना ।
 सालग्राम—(हिं. पुं.) देखें 'शालग्राम' ।
 सालाना—(फा. अव्य., वि.) प्रतिवर्ष,
 वार्षिक ।
 साली—(हिं. स्त्री.) पत्नी की वहिन ।
 सालु—(हिं. पुं.) ईर्ष्या, डाह, कष्ट ।
 सालु—(हिं. पुं.) एक प्रकार की लाल रंग
 की साड़ी जो मांगलिक कार्यों में पहनी
 जाती है ।
 सालेया—(सं. स्त्री.) मधुरिका, सीफ ।
 सालोक्य—(सं. पुं.) एक ही लोक में वास ।

पाँच प्रकार की मुक्तियों में से एक,
 (इसमें मुक्त भगवान् के साथ एक लोक
 में वास करता है) ।
 सालमली—(हिं. पुं.) देखें 'शालमली' ।
 सावकरन—(हिं. पुं.) सफेद रंग का
 घोड़ा जिसके दोनों कान काले होते हैं ।
 सावंत—(हिं. पुं.) देखें 'सामंत', योद्धा,
 वीर ।
 साव—(हिं. पुं.) देखें 'साह' ।
 सावक—(हिं. पुं.) शावक, शिशु, बच्चा ।
 सावकाश—(सं. पुं.) अवकाश, छुट्टी,
 अवसर; (अव्य.) सुविधे से; (वि.)
 जिसे अवकाश हो ।
 सावचेत—(हिं. वि.) सावधान, सचेत ।
 सावचेती—(हिं. स्त्री.) सावधानी ।
 सावज—(हिं. पुं.) एक प्रकार का जंगली
 पशु जिसका आखेट किया जाता है ।
 सावत—(हिं. पुं.) सौतों का परस्पर द्वेष,
 डाह ।
 सावधान—(सं. वि.) सचेत, सतर्क ।
 सावधानता—(सं. स्त्री.) सावधानी ।
 सावधानी—(हिं. स्त्री.) सचेतता, सतर्कता ।
 सावधि—(सं. वि.) अवधियुक्त ।
 सावन—(हिं. पुं.) श्रावण मास, आपाढ़
 और भादों के बीच का महीना, इस महीने
 में गाया जानेवाला एक प्रकार का लोक-
 गीत; (सं. पुं.) एक सूर्योदय से दूसरे
 सूर्योदय तक का समय ।
 सावनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'श्रावणी', सावन
 महीने में गाया जानेवाला लोकगीत ।
 सावयव—(सं. वि.) अवयवयुक्त ।
 सावर—(सं. पुं.) लोभ, पाप, अपराध;
 (हिं. पुं.) शिवकृत एक मन्त्र का नाम,
 एक प्रकार का लंबा अस्त्र जिसका
 एक सिरा नुकीला होता है, एक प्रकार
 का हिरन ।
 सावर्ण—(सं. पुं.) आठवें मनु, सार्वर्ण
 मनु; (वि.) समान वर्ण अथवा जाति का ।
 सावर्ण—(सं. पुं.) अष्टम मनु जो सूर्य के
 एक पुत्र थे, एक मन्वन्तर का नाम ।
 सावशेष—(सं. वि.) अवशेषयुक्त ।
 सावष्टंभ—(सं. पुं.) वह घर जिसके उत्तर
 तथा दक्षिण भाग में सड़क हो; (वि.)
 स्थावलयी ।
 सावित्र—(सं. पुं.) ब्राह्मण, शंकर, वसु,
 सूर्य, गर्भ, सूर्य के पुत्र, एक प्रकार का
 अस्त्र; (वि.) सूर्यवंशीय ।
 सावित्री—(सं. स्त्री.) वेदमाता, गायत्री,
 उपनयन-संस्कार, रोहागिन स्त्री, यमुना
 नदी, सरस्वती नदी, ब्रह्मा की पत्नी,

सरस्वती, दक्ष की कन्या का नाम, राजा अश्वपति की कन्या जो सत्यवान् को व्याही थी ।

सावित्रीसूत्र—(सं. पुं.) यज्ञोपवीत ।

साशंक—(सं. वि.) आशंकायुक्त ।

साष्टांग—(सं. वि.) आठों अंगसहित;
—प्रणाम—(पुं.) माथा, हाथ, पैर, आँख, हृदय, जाँघ, वचन और मन से पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम करना; —योग—(पुं.) वह योग जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये आठों अंग हों ।

सास—(हिं. स्त्री.) पति या पत्नी की माता ।

सासत (ति)—(हिं. स्त्री.) दंड, सजा, साँसत, शासन ।

सासनलेट—(हिं. पुं.) एक प्रकार का जालीदार सफेद कपड़ा ।

सासरा—(हिं. पुं.) देखें 'ससुराल' ।

सासव—(सं. वि.) मद्ययुक्त ।

सासा—(हिं. पुं.) श्वास, साँस, सन्देह ।

सासुर—(हिं. पुं.) ससुर, ससुराल ।

सास्ना—(सं. स्त्री.) गौ का गलकंवल ।

साह—(हिं. पुं.) साधु, सज्जन, भला आदमी, व्यापारी, साहूकार, धनी, महाजन, सेठ, लकड़ी या पत्थर का लंबा टुकड़ा जो द्वार के चौखट में दोनों ओर लगा रहता है, देखें 'शाह' ।

साहचर्य—(सं. पुं.) सहचर होने का भाव, सहगमन, संग, साथ ।

साहनी—(हिं. स्त्री.) मेल, साथी, संगी ।

साह (हि) व—(अ. पुं.) मालिक, स्वामी, मित्र, साथी, हाकिम, अधिकारी, ईश्वर, अंग्रेज, गोरा ।

साहबाना—(अ. वि.) साहब-जैसा ।

साहबी—(अ. वि.) साहब का, साहब से संबद्ध; (स्त्री.) साहबीयत ।

साहबीपत—(हिं. स्त्री.) साहबी ठाट-बाट ।

साहस—(सं. पुं.) दृढ़तापूर्वक कार्य करने की क्रिया, हिम्मत, दृष्ट, अत्याचार, दण्ड, क्रूरता, कोई बुरा कार्य, बलपूर्वक किसी का धन छीनना ।

साहसिक—(सं. वि.) साहस करनेवाला, हिम्मती; (पुं.) झूठ बोलनेवाला, चोर, ठग, हक्ष वचन बोलनेवाला, निडर, परस्त्रीगामी ।

साहसिकता—(सं. स्त्री.) निर्भीकता ।

साहसी—(सं. वि.) जो साहस करता हो, हिम्मती ।

साहस्र—(सं. वि.) सहस्र-संबंधी, हजार का ।

साहस्रक—(सं. वि.) सहस्र-संबंधी ।

साहा—(हिं. पुं.) विवाह आदि के लिये शुभ लग्न, साधु, भला आदमी, राजा, अधिपति ।

साहाय्य—(सं. पुं.) सहायता ।

साहि—(हिं. पुं.) राजा ।

साहित्य—(सं. पुं.) एकत्र होना, मिलना, वाक्य में पदों का एक प्रकार का सम्बन्ध जिसमें वे परस्पर अपेक्षित होते हैं और उनका अन्वय एक ही क्रिया से होता है, लिपिवद्ध विचार, ज्ञान, गद्य-पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रन्थ जिनमें ज्ञान-सम्बन्धी स्थायी विचार लिखे रहते हैं ।

साहित्यिक—(सं. वि.) साहित्य-सम्बन्धी; (पुं.) साहित्य का ज्ञाता ।

साहियाँ—(हिं. पुं.) देखें 'साँई' ।

साही—(हिं. स्त्री.) विल्ली से कुछ बड़ा एक प्रसिद्ध जंतु जिसकी पीठ पर नुकीले काँटे होते हैं ।

साहु—(हिं. पुं.) सज्जन, महाजन, धनी, साहूकार, भद्र पुरुष ।

साहु—(हिं. पुं.) देखें 'साहु'; —कार—(पुं.) बड़ा महाजन, कोठीवाल; —कारी—(स्त्री.) रूपये का लेनदेन, महाजनी; (वि.) साहूकार-सम्बन्धी ।

साहं—(हिं. स्त्री.) वाँह, मुजा; (अव्य.) सम्मुख, सामने ।

सािकना—(हिं. क्रि. अ.) आँच पर पकना, सेंका जाना ।

सािगल—(हिं. पुं.) संकेत, इशारा, रेलगाड़ी को रोकने का संकेत-स्तंभ ।

सािगा—(हिं. पुं.) फूँककर बजाया जानेवाला एक प्रकार का वाजा ।

सािगार—(हिं. पुं.) शृंगार, सजावट, शोभा, शृंगार-रस; —दान—(पुं.) वह छोटी पेट्टी जिसमें दर्पण, कंधी आदि शृंगार की सामग्रियाँ रखी जाती हैं; —हाट—(पुं.) वेश्याओं के रहने का वाजार; —हार—(पुं.) हरसागार, परजाते का फल ।

सािगारना—(हिं. क्रि. स.) सँवारना, सजाना ।

सािगारिया—(हिं. पुं.) किसी देवमूर्ति का शृंगार करनेवाला पुजारी ।

सािगारी—(हिं. पुं.) शृंगार करनेवाला, सजानेवाला ।

सािगाल—(हिं. पुं.) एक प्रकार का पहाड़ी बकरा ।

सािगसन—(हिं. पुं.) देखें 'सािहासन' ।

सािगिया—(हिं. पुं.) एक पौधे की जड़ जो बड़ी विषैली होती है ।

सािगी—(हिं. पुं.) सींग का बना हुआ

फूँककर बजाने का वाजा, एक प्रकार की मछली, सींग की नली जिससे शरीर का विषाक्त या दूषित रक्त चूसकर निकालते हैं ।

सािगौटी—(हिं. स्त्री.) बेल की सींग पर पहनाने का आमपण, सींग का बना हुआ वाजा, वह छोटी पिटारी जिसमें स्त्रियाँ शृंगार की सामग्रियाँ रखती हैं ।

सािघ—(हिं. पुं.) सिह ।

सािघल, सािघली—(हिं. पुं.) देखें 'सािहल', 'सािहली' ।

सािघाड़ा—(हिं. पुं.) पानी में फैलनेवाली एक लता जिसका तिकोना फल खाया जाता है, सािघाड़े के आकार का बेल-वूटा, एक प्रकार की अग्निक्लीड़ा समोसा नामक नमकीन पकवान ।

सािघासन—(हिं. पुं.) देखें 'सािहासन' ।

सािघिनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'सािहिनी' ।

सािघिया—(हिं. पुं.) देखें 'सािगिया' ।

सािघी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की छोटी मछली, सोठ ।

सािघला—(हिं. पुं.) सिह का बच्चा ।

सािघन—(सं. पुं.) सींचना, पानी से तर करना ।

सािघना—(हिं. क्रि. अ.) सींचा जाना ।

सािघाई—(हिं. स्त्री.) पानी छिड़कने का काम, भूमि को जल से तर करने की क्रिया, सींचने का कार्य या पारिश्रमिक ।

सािघाना—(हिं. क्रि. स.) पानी छिड़काना, सींचने का काम कराना ।

सािघित—(सं. वि.) सींचा हुआ, जल से तर किया हुआ ।

सािघितता—(सं. स्त्री.) पिप्पली नामक प्रसिद्ध ओषधि ।

सािघित—(हिं. स्त्री.) गहनों आदि की झनकार ।

सािघन—(हिं. पुं.) देखें 'सािघन' ।

सािघुरी, सािघुरार—(हिं. स्त्री.) बलूत जाति का एक वृक्ष ।

सािघूर—(सं. पुं.) सीसा नामक धातु से बनाया हुआ एक प्रकार का लाल चूर्ण जिसको सोहागिन स्त्रियाँ माँग में लगाती हैं; —तिलका—(स्त्री.) सववा स्त्री; —दान—(पुं.) सािघूर रखने की एक प्रकार की लकड़ी की डिविया ।

सािघूरिया—(हिं. वि.) सािघूर के रंग का, बहुत लाल; (स्त्री.) सािघूरपुष्पी नाम का पौधा ।

सािघुरी—(हिं. वि.) सािघूर के रंग का; (स्त्री.) लान कपड़ा ।

सिंदोरा—(हि. पुं.) लकड़ी की एक डिविया जिसमें स्त्रियाँ सिंदूर रखती हैं।
 सिंध—(सं. पुं.) पश्चिमी पाकिस्तान का एक प्रदेश, पंजाब की एक प्रधान नदी, एक रागिनी का नाम।
 सिंधवी—(हि. स्त्री.) एक रागिनी।
 सिंधी—(हि. स्त्री.) सिंध देश की भाषा; (पुं.) सिंध का निवासी; (वि.) सिंध-संबंधी।
 सिंधु—(सं. पुं.) समुद्र, सागर, वरुण देवता, चार की संख्या, सात की संख्या, सिंधु प्रदेश या नदी, इस देश का निवासी, निर्गुण्डी का पौधा, ओठों का गीलापन, सम्पूर्ण जाति का एक राग; -कन्या—(स्त्री.) लक्ष्मी; -कफ—(पुं.) समुद्र-फेन; -कर—(पुं.) सोहागा; -ज—(पुं.) सेंधा नमक, पारा, सोहागा; (वि.) समुद्र में उत्पन्न; -जा—(स्त्री.) लक्ष्मी, वह सीप जिससे मोती निकलता है; -जात—(पुं.) मुक्ता, मोती; -डा—(स्त्री.) एक रागिनी; -नंदन—(पुं.) चंद्रमा; -नाथ, -पति—(पुं.) समुद्र; -पत्नी—(स्त्री.) नदी; -पिब—(पुं.) अगस्त्य ऋषि; -पुत्र—(पुं.) चंद्रमा; -पुष्प—(पुं.) शंख, कदंब, मौलसिरी; -मध्य—(पुं.) अमृत; -माता—(स्त्री.) सरस्वती; -र—(पुं.) हाथी, आठ की संख्या; -रमणि—(पुं.) गजमुक्ता; -वदन—(पुं.) गणेश; -वार—(पुं.) निर्गुण्डी; -वासिनी—(स्त्री.) लक्ष्मी; -विप—(पुं.) हलाहल या कालकूट विष; -शयन—(पुं.) विष्णु; -सुत—(पुं.) जालन्धर नामक राक्षस जिसको शिव ने मारा था; -सुता—(स्त्री.) लक्ष्मी।
 सिंधूभव—(सं. पुं.) सेंधा नमक।
 सिंधूरा—(हि. पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग।
 सिंधोरा—(हि. पुं.) सिंदूर रखने का लकड़ी का पात्र।
 सिंह—(सं. पुं.) मृगेंद्र, पशुराज, ज्योतिष में मेपादि वारह राशियों में से पाँचवीं राशि, वीर पुरुष, छप्पय का एक भेद; -झेलि—(पुं.) सिंह का संभोग; -केशर—(पुं.) सिंह की गरदन पर के बाल; -कुंड—(पुं.) सेंहुड़ का पौधा; -द्वार—(पुं.) भवन आदि का प्रधान द्वार जहाँ सिंह की मूर्ति बनी हो; -ध्वनि—(स्त्री.) सिंहानाद; -नंदन—(पुं.) संगीत में एक ताल का नाम; -नाद—(पुं.) सिंह की गरज, वीरों की लज्जामार, भय, महादेव, संगीत में एक ताल का नाम, एक वर्णवृत्त

का नाम जिसको नन्दिनी या कलहंस भी कहते हैं; -पुच्छ—(पुं.) पिठवन; -पौर—(पुं.) प्रधान द्वार जहाँ सिंह की मूर्ति बनी हो; -मुख—(पुं.) सिंह के समान मुखवाला; -मुखी—(स्त्री.) बाँस, अड़सा; -याना, -रथा—(स्त्री.) दुर्गा; -रव—(पुं.) सिंह की गरज; -लीला—(पुं.) संगीत में एक ताल; -त्राहना, -त्राहिनी—(स्त्री.) दुर्गा देवी; -विक्रम—(पुं.) एक प्रकार का छन्द जिसमें पैतालीस अक्षर होते हैं; -विक्रीडित—(पुं.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में अठारह अक्षर होते हैं, संगीत में एक प्रकार का ताल, एक प्रकार की समाधि; -विस्फूर्जित—(पुं.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में अठारह अक्षर होते हैं; -स्थ—(वि.) एक पर्व जो बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर होता है; -स्था—(स्त्री.) दुर्गा।
 सिंहनी—(हि. स्त्री.) शेरनी, एक छन्द जिसके चारों पदों में क्रम से बारह, अठारह, बीस और बाईस मात्राएँ होती हैं।
 सिंहल—(सं. पुं.) भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटे द्वीप का प्राचीन नाम।
 सिंहलक—(सं. पुं.) बढ़िया पीतल, रांगा।
 सिंहलद्वीप—(सं. पुं.) सिंहल नामक टापू जो भारत के दक्षिण में है।
 सिंहलद्वीपी—(सं. पुं.) सिंहल द्वीप का निवासी।
 सिंहली—(हि. वि.) सिंहल द्वीप का।
 सिंहाक्ष—(सं. वि.) सिंह के समान आँखों-वाला।
 सिंहाण—(सं. पुं.) नाक का मल, लोहे का मुरचा।
 सिंहावलोकन—(सं. पुं.) सिंह के समान पीछे देखते हुए आगे बढ़ना, आगे बढ़ने से पहले पिछली बातों पर दृष्टिपात करना, पद्य-रचना की एक शैली जिसमें पिछले चरण के अन्त के कुछ शब्दों या पदों को लेकर आगे का चरण आरंभ होता है।
 सिंहावलोकित—(सं. पुं.) न्याय का वह भेद जिसमें पास की बातों पर ध्यान न देकर पिछली बातों पर ध्यान दिया गया हो।
 सिंहासन—(सं. स्त्री.) राजा का स्वर्णनिर्मित आसन, राजाओं का श्रेष्ठ आसन, देवता को बैठाने की चौकी आदि।
 सिंहिका—(सं. स्त्री.) एक राक्षसी जो राहु की माता थी, (यह दक्षिण समुद्र में रहती थी और उड़नेवाले जीवों की

परछाईं देखकर उनको खींचकर खा जाती थी।)
 सिंहिकामुनू—(सं. पुं.) राहु।
 सिंहिनी—(सं. स्त्री.) मादा सिंह, शेरनी।
 सिंही—(सं. स्त्री.) शेरनी, वैगन, अड़सा, सिंगा नाम का बाजा, आर्या छन्द का एक भेद।
 सिंहेश्वरी—(सं. स्त्री.) दुर्गा।
 सिंहोड—(हि. पुं.) सेंहुड़, यूहर।
 सिंहोदरी—(सं. वि.) सिंह के समान पतली कमरवाली।
 सिंहोद्धता—(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में चौदह अक्षर होते हैं।
 सिंहोन्नता—(सं. स्त्री.) एक छन्द का नाम।
 सिंहरा—(हि. पुं.) छाया, परछाईं।
 सिंभाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'सिलाना'।
 सिंभामंग—(हि. पुं.) सुमाना द्वीप में पाया जानेवाला एक प्रकार का बंदर।
 सिंभार—(हि. पुं.) शृगाल, सियार, गीदड़।
 सिंकजा—(हि. पुं.) देखें 'शिकंजा'।
 सिंकंदर—(फा. पुं.) इतिहास-प्रसिद्ध यूनानी बादशाह तथा विजेता।
 सिंकंदरी—(फा. वि.) सिंकंदर का।
 सिंकटा—(हि. पुं.) खपड़े या मिट्टी के टूटे हुए पात्रों का छोटा टुकड़ा।
 सिंकड़ी—(हि. स्त्री.) किवाड़ की जंजीर या साँकल, श्रृंखला के आकार का गले में पहनने का सोने का गहना, करधनी।
 सिंकता—(सं. स्त्री.) बलुई भूमि, बालू, रेत, पथरी (रोग), चीनी।
 सिंकतर—(हि. पुं.) किसी संस्था या सभा का मंत्री।
 सिंकरवार—(हि. पुं.) क्षत्रियों की एक शाखा।
 सिंकरी—(हि. स्त्री.) देखें 'सिकड़ी'।
 सिंकली—(हि. स्त्री.) धारदार हथियारों को माँजने और उन पर सान चढ़ाने की क्रिया; -गर—(पुं.) सिकली करने-वाला कारीगर।
 सिंकहर—(हि. पुं.) छोका।
 सिंकहली—(हि. स्त्री.) काश या मूँज की बनी हुई छोटी डलिया।
 सिंकार—(हि. पुं.) देखें 'शिकार'।
 सिंकारी—(हि. पुं, वि.) देखें 'शिकारी'।
 सिंकुड़न—(हि. स्त्री.) वस्त्र आदि का सिमटना, सिंकुड़ने का चिह्न, संकोच।
 सिंकुड़ना—(हि. क्रि. अ.) सिमटना, बढ़-रना, आकुंचित होना, संकीर्ण होना।
 सिंकुरना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'सिंकुड़ना'।
 सिंकोड़ना—(हि. क्रि. स.) संकुचित करना,

संकीर्ण करना, बटोरना, समेटना ।
सिकोरना—(हि. क्रि. स.) देखें 'सिकोड़ना' ।
सिकोरा—(हि. पुं.) देखें 'कसोरा' ।
सिकोली—(हि. स्त्री.) बेंत आदि की बनी हुई छोटी डलिया ।
सिकोही—(हि. वि.) गर्वीला, घमंडी, वीर ।
सिक्कक—(सं. पुं.) वासुरी में लगाने की जीभी ।
सिक्कड़—(हि. पुं.) सिकड़ी ।
सिक्कर—(हि. पुं.) देखें 'सिक्कड़' ।
सिक्का—(अ. पुं.) मुद्रा, छाप, मुहर, रुपये-पैसे आदि पर अंकित राजकीय छाप, पदक, टुकसाल में ढला हुआ धातु का टुकड़ा जो निर्दिष्ट मूल्य का धन माना जाता है, माल का वह दाम जिसमें दलाली सम्मिलित हो; (मुहा.)—**जमना**—प्रभुत्व स्थापित होना ।
सिक्की—(हि. स्त्री.) छोटा सिक्का ।
सिक्ख—(हि. पुं.) देखें 'सिख' ।
सिक्वत—(सं. वि.) सिंचित, सींचा हुआ, भीगा हुआ ।
सिक्थ—(सं. पुं.) भात, भात का ग्रास ।
सिखंडी—(हि. पुं.) देखें 'शिखंडी' ।
सिख—(हि. स्त्री.) शिक्षा, उपदेश, सीख; (पुं.) शिष्य, चेला, नानक-पंथी संप्रदाय या उसका अनुयायी ।
सिखना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'सीखना' ।
सिखर—(हि. पुं.) देखें 'शिखर' ।
सिखरन—(हि. स्त्री.) दही में चीनी मिलाकर बनाया हुआ शरबत जिसमें केशर, इलायची, मेवे आदि पड़े हों ।
सिखलाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'सिखाना' ।
सिखा—(हि. स्त्री.) शिखा, चुटिया, चंदी ।
सिखाना—(हि. क्रि. स.) उपदेश देना, शिक्षा देना, पढ़ाना, बतलाना, घमकाना, दण्ड देना;—**पढ़ाना**—चतुर बनाना, शिक्षा देना ।
सिखापन—(हि. पुं.) उपदेश, शिक्षा, सिखाने का काम ।
सिखावन—(हि. पुं.) उपदेश, शिक्षा ।
सिखावना—(हि. क्रि. स.) देखें 'सिखलाना' ।
सिखिर—(हि. पुं.) देखें 'शिखर' ।
सिखी—(हि. पुं.) देखें 'शिखी' ।
सिगल—(अं. पुं.) रेलगाड़ी रोकने का प्रसिद्ध संकेत-स्तम्भ, सिगल ।
सिगरेट—(अं. पुं.) धूम्रपान के लिए कागज में तंबाकू भरकर बनाई हुई वस्तु ।
सिगार—(अं. पुं.) चुरट ।
सिगारा—(हि. वि.) सम्पूर्ण, समग्र, सब ।
सिगोन—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की रेतीली मिट्टी ।

सिचय—(सं. पुं.) वस्त्र, कपड़ा, जीर्ण वस्त्र ।
सिचान—(हि. पुं.) श्येन, बाज पक्षी ।
सिच्छा—(हि. स्त्री.) देखें 'शिक्षा' ।
सिजल—(हि. वि.) जो देखने में सुन्दर हो ।
सिजादर—(हि. पुं.) नाव में पाल चढ़ाने का रस्ता ।
सिझना—(हि. क्रि. अ.) आँच पर पकना, सिझाया जाना ।
सिझाना—(हि. क्रि. स.) आँच पर पकाकर गलाना, रींचना, शरीर को क्षीण बनाना ।
सिटकिनी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की पतली छड़ जो किवाड़ बंद करने के लिये लगाई जाती है, चटखनी ।
सिटपिटाना—(हि. क्रि. अ.) दब जाना, मंद पड़ जाना, स्तब्ध होना, सकुचाना ।
सिट्टी—(हि. स्त्री.) बहुत बड़-बड़कर बोलना; (मुहा.)—**गुम होना**—सिटपिटाना जाना ।
सिठना—(हि. पुं.), **सिठनी**—(हि. स्त्री.) विवाह के समय गाई जानेवाली गाली ।
सिठाई—(हि. स्त्री.) फीकापन, नीरसता, मन्दता ।
सिड़—(हि. स्त्री.) उन्माद, पागलपन, सनक;—**पन**—(पुं.) पागलपन;—**बिल्ला**—(वि.) पागल, झक्की ।
सिड़ी—(हि. वि.) पागल, सनकी, उन्मत्त ।
सितंबर—(अं. पुं.) अंग्रेजी वर्ष का नवाँ महीना ।
सित—(सं. पुं.) चाँदी, मूली, चन्दन, शुक्राचार्य, शुक्ल पक्ष, शक्कर, चीनी, तिल, भोजपत्र; (वि.) श्वेत, उजला, चमकीला, स्वच्छ;—**कंठ**—(पुं.) महादेव; (वि.) सफेद गरदनवाला;—**कमल**—(पुं.) सफेद कमल;—**कर**—(पुं.) भीमसेनी कपूर;—**कर्ण**—(स्त्री.) वासक;—**काच**—(पुं.) विल्लौर;—**कुंजर**—(पुं.) इन्द्र का हाथी, ऐरावत;—**क्षार**—(पुं.) सफेद सोहागा;—**गुंजा**—(स्त्री.) सफेद घुंघची;—**चंदन**—(पुं.) श्रीखण्ड, चन्दन;—**च्छत्रा**—(स्त्री.) सौंफ;—**ज**—(पुं.) मधु से निकाली हुई शक्कर;—**जा**—(स्त्री.) मधु, शर्करा;—**जीरक**—(पुं.) सफेद जीरा;—**ता**—(स्त्री.) सफेदी;—**तुरग**—(पुं.) अर्जुन;—**दीधिति**—(पुं.) चन्द्रमा;—**ध्वज**—(पुं.) हंस;—**घातु**—(स्त्री.) खड़िया मिट्टी;—**पक्ष**—(पुं.) शुक्ल पक्ष, हंस;—**पुष्प**—(पुं.) सिरिस का वृक्ष;—**पुरपा**—(स्त्री.) चमेली का फूल;—**प्रभ**—(पुं.) चाँदी;—**भानु**

(पुं.) चन्द्रमा;—**मणि**—(पुं.) स्फटिक, विल्लौर;—**माण**—(पुं.) वोड़ा, लोविया;—**मेघ**—(पुं.) सफेद बादल;—**रंज**—(पुं.) कर्पूर, कपूर;—**रश्मि**—(पुं.) चन्द्रमा;—**राग**—(पुं.) चाँदी;—**रश्मि**—(पुं.) चन्द्रमा;—**वराह**—(पुं.) श्वेत वारह;—**पत्नी**—(स्त्री.) पृथ्वी, धरती;—**वाजी**—(पुं.) अर्जुन;—**वारण**—(पुं.) सफेद हाथी;—**शिव**—(पुं.) सेंवा नमक, शमी का वृक्ष;—**सागर**—(पुं.) क्षीर-सागर;—**सिंधु**—(पुं.) क्षीरसमुद्र; (स्त्री.) गंगा ।
सितम—(फा. पुं.) जुल्म, अन्याय, अत्याचार;—**गर**—(पुं.) अत्याचारी, अन्यायी ।
सितली—(हि. स्त्री.) पीड़ा आदि की अवस्था में निकनेवाला पसीना ।
सितांग—(सं. पुं.) वेलें का पौधा, एक प्रकार का कपूर ।
सितांबर—(सं. पुं.) वह जो सफेद वस्त्र पहनता हो ।
सितांभोज—(सं. पुं.) सफेद कमल ।
सितांशु—(सं. पुं.) चन्द्रमा, कर्पूर ।
सिता—(सं. स्त्री.) शर्करा, चीनी, चाँदी, गोरोचन, मल्लिका पुष्प, सफेद भट-कटैया, सफेद दूब, शुक्ल पक्ष, चन्द्रिका, चाँदनी;—**खंड**—(पुं.) मिखी ।
सितानन—(सं. पुं.) गरुड़, विल्व वृक्ष; (वि.) सफेद मुंहवाला ।
सितापांग—(सं. पुं.) मयूर, मोर ।
सिताब्ज—(सं. पुं.) सफेद कमल ।
सिताभ—(सं. पुं.) कर्पूर, सफेद मेघ, सफेद चीनी ।
सितार—(हि. पुं.) कए प्रकार का प्रसिद्ध वाजा जो इसमें लगे हुए तारों को उँगली से झनकारने से बजता है ।
सितारा—(फा. पुं.) तारा, नक्षत्र, भाग्य, चाँदी-सोने की टिकली, चमकी; (मुहा.)—**चमकना**—भाग्य चमकना;—**बुलंद होना**—सितारा चमकना ।
सितालक—(सं. पुं.) सफेद मदार ।
सितालिका—(सं. स्त्री.) सीप, सितुही ।
सितावर—(सं. पुं.) सुसना का साग ।
सिताव्य—(सं. पुं.) चन्द्रमा; (वि.) सफेद घोड़ेवाला ।
सितासित—(सं. वि.) सफेद और काला; (पुं.) बलदेव ।
सिति—(सं. वि.) शुक्ल, उजला, कृष्ण, काला;—**कंठ**—(पुं.) नीलगंठ, शिव, महादेव ।

सितुई, सितुही—(हिं. स्त्री.) सुतुही।
 सितेशु—(सं. पुं.) सफेद ईख।
 सितेतार—(सं. वि.) कोला या नीला;
 -गति—(पुं.) अग्नि, आग।
 सितोत्पल—(सं. पुं.) सफेद कमल।
 सितोदर—(सं. पुं.) कुबेर।
 सितोद्भव—(सं. पुं.) सफेद चन्दन।
 सितोपल—(सं. पुं.) स्फटिक, बिल्लौर।
 सितोपला—(सं. स्त्री.) शर्करा, चीनी,
 मिस्री।
 सिथिल—(हिं. वि.) देखें 'शिथिल'।
 सिदामा—(हिं. पुं.) देखें 'श्रीदामा'।
 सिद्धिका—(हिं. वि.) सत्य, सच्चा।
 सिद्ध—(सं. पुं.) एक प्रकार के देवता जो
 भूवलोक में रहते हैं, अर्हत्, वह जिसने
 योग या तपोबल से सिद्धि पाई हो,
 महात्मा, ज्ञानी, ज्योतिष में एक योग
 का नाम, व्यवहार, कालाधतूरा, सफेद
 सरसों, सेंधा नमक; (वि.) प्रसिद्ध,
 सम्पन्न, जिसका साधन हो गया हो,
 प्राप्त, सफल, अनुकूल किया हुआ,
 लक्ष्य पर पहुँचाया हुआ, निर्णीत, प्रस्तुत,
 जिसका तप या योग-साधन पूरा हो चुका
 हो, मोक्ष का अधिकारी, जिसका अर्थ
 पूरा हो, जो ठीक घटा हो, जो प्रमाण
 द्वारा निश्चित हो, शोषा हुआ, आँच पर
 पकाया हुआ; -क—(वि.) सिद्ध करने-
 वाला, काम पूरा करनेवाला; -कञ्जल-
 (पुं.) वह काजल जिसको लगाने से लोग
 वशीभूत होते हैं; -कारी—(वि.) धर्म-
 शास्त्र के अनुसार आचरण करनेवाला;
 -कार्य—(वि.) सफल; -काम—(वि.)
 कृतार्थ, कृतकार्य, सफल; -क्षेत्र—(पुं.)
 सिद्धाश्रम; -गंगा—(स्त्री.) मन्दाकिनी,
 आकाशगंगा; -गति—(स्त्री.) वे कर्म
 जिनके करने से मनुष्य सिद्ध होता है;
 -गुटिका—(स्त्री.) वह मन्त्रसिद्ध गोली
 जिसको मुख में रख लेने से अद्भुत
 शक्ति आ जाती है; -गुरु—(पुं.)
 वह गुरु जिसका मन्त्र सिद्ध हो;
 -जन—(पुं.) सिद्ध मनुष्य; -जल-
 (पुं.) पकाया हुआ जल; -ता—(स्त्री.)
 सिद्धि, पूर्णता, प्रामाणिकता; -तापस-
 (पुं.) वह तपस्वी जिसने सिद्धि प्राप्त
 की हो; -त्व—(पुं.) देखें 'सिद्धता';
 -दर्शन—(पुं.) सिद्ध पुरुष का साक्षात्कार;
 -देव—(पुं.) महादेव; -द्रव्य—(पुं.)
 जादू का द्रव्य; -धातु—(स्त्री.)
 पारद, पारा; -धाम—(पुं.) सिद्ध-स्थान;
 -नाय—(पुं.) महादेव; -पक्ष—(पुं.)

प्रमाणित बात; -पथ—(पुं.) आकाश,
 प्रसिद्ध मार्ग; -पात्र—(पुं.) स्कन्द के
 एक अनुचर का नाम; -पीठ—(पुं.)
 वह स्थान जहाँ जपादि करने से शीघ्र
 सिद्धि प्राप्त होती है; -पुष्प—(पुं.)
 कनेर का फूल; -प्रयोजन—(पुं.) सफेद
 सरसों; -भूमि—(स्त्री.) सिद्ध-स्थान;
 -मन्त्र—(पुं.) वह मन्त्र जो सिद्ध हो चुका
 हो; -मत—(पुं.) सिद्ध महात्माओं का
 मत; -मातृका—(स्त्री.) एक देवी का
 नाम; -मानस—(वि.) जिसकी अभिलाषा
 सिद्ध हुई हो; -योगी—(स्त्री.) शिव,
 महादेव; -रस—(पुं.) पारद, पारा;
 -रसायन—(पुं.) दीर्घ जीवन और
 शारीरिकशक्ति देनेवाली औषध; -लक्ष-
 (वि.) जिसका लक्ष्य या निशाना कभी
 न चूकता हो; -विद्या—(स्त्री.) एक
 महाविद्या; -संकल्प—(वि.) जिसकी
 सब कामनाएँ पूर्ण हों; -सरित्—(स्त्री.)
 आकाशगंगा; -साधन—(पुं.) प्रमा-
 णित बात को प्रमाणित करना; -सिधु-
 (पुं.) स्वर्ग-गंगा; -सेवित—(पुं.)
 वटुक भैरव; -हस्त—(वि.) जिसका
 हाथ कोई काम करने में मँजा हो।
 सिद्धांजन—(सं. पुं.) वह अंजन जिसको
 आँखों में लगाने से भूमि-गर्भ की
 वस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं।
 सिद्धांत—(सं. पुं.) वह नियम जो विद्वानों
 द्वारा सत्य माना जाता है, वह मत जो
 मली भाँति सोच-विचारकर स्थिर किया
 गया हो, मुख्य अग्निप्राय, तत्त्व की बात-
 निर्णीत विषय, किसी विषय पर लिखी
 हुई कोई विद्वत्तापूर्ण पुस्तक, वह मत
 जो पूर्वपक्ष के बाद सिद्ध किया गया हो।
 सिद्धांतज्ञ—(सं. पुं.) तत्त्वज्ञ, सिद्धांत को
 जाननेवाला।
 सिद्धांतित—(सं. वि.) प्रमाणित, निर्णय
 किया हुआ।
 सिद्धांती—(सं. पुं.) तार्किक, मीमांसक,
 शास्त्र के तत्त्व को जाननेवाला।
 सिद्धांवा—(सं. स्त्री.) दुर्गा।
 सिद्धा—(सं. स्त्री.) आठ योगिनियों में से
 एक, देवांगना, आर्या छन्द का एक भेद,
 सिद्ध की स्त्री।
 सिद्धाई—(हिं. स्त्री.) सिद्ध होने की अवस्था।
 सिद्धान्न—(सं. पुं.) पका हुआ अन्न, भात।
 सिद्धार्थ—(सं. वि.) जिसकी सब काम-
 नाएँ पूर्ण हो गई हों; (पुं.) गौतम बुद्ध,
 राजा दशरथ के एक मन्त्री का नाम,
 जैनों के चौबीसवें अर्हत्।

सिद्धासन—(सं. पुं.) हठ-योग के चौरासी
 आसनों में से एक प्रधान आसन।
 सिद्धि—(सं. स्त्री.) निवटारा, योग विशेष,
 दुर्गा, खड़ाऊँ, भाग्योदय, मोक्ष, मुक्ति,
 सफलता, धन, प्रवीणता, कौशल, प्रभाव,
 भाँग, पूर्णता, निश्चय होना, प्रमाणित
 होना, कौशल, निर्णय, दक्ष प्रजापति
 की एक कन्या का नाम, गणेश की दो
 स्त्रियों में से एक, छप्पय का एक भेद,
 संगीत में एक श्रुति, राजा जनक की
 पुत्रवधू, तप या योग पूर्ण होने का
 अलौकिक फल, योग की आठ सिद्धियाँ
 (अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा,
 प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व);
 -दा, -दाता—(वि.) सिद्धि देनेवाला;
 -प्रद—(वि.) सिद्धि देनेवाला; -बीज-
 (पुं.) सिद्धि का कारण; -भूमि-
 (स्त्री.) वह स्थान जहाँ तप आदि की
 शीघ्र सिद्धि होती है; -मार्ग—(पुं.)
 मोक्ष का मार्ग; -योग—(पुं.) ज्योतिष
 में एक प्रकार का शुभ योग; -वाद-
 (पुं.) ज्ञान-विषयक वार्ता; -विनायक-
 (पुं.) सिद्धिदाता गणेशजी; -साधक-
 (वि.) मनोरथ सिद्ध करनेवाला;
 -स्थान—(पुं.) वह स्थान जहाँ
 पुरस्चरण, योग आदि करने से शीघ्र
 सिद्धि होती है।
 सिद्धेश्वर—(सं. पुं.) योगियों में श्रेष्ठ,
 महायोगी, शिव, महादेव।
 सिद्धेश्वरी—(सं. स्त्री.) तान्त्रिकों की एक
 देवी का नाम।
 सिद्धोदक—(सं. पुं.) पकाया हुआ जल,
 काँजी।
 सिद्धोषध—(सं. स्त्री.) वह औषध जिसके
 सेवन करने से रोग-निवृत्ति होती है।
 सिधरी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की मछली।
 सिधाई—(हिं. स्त्री.) सरलता, सीधापन।
 सिधाना, सिधारना—(हिं. क्रि. अ.) जाना,
 प्रस्थान करना, स्वर्गवास होना, मरना।
 सिधि—(हिं. स्त्री.) देखें 'सिद्धि'।
 सिध्म—(सं. वि.) श्वेत कुष्ठ से ग्रस्त।
 सिनक—(हिं. स्त्री.) नाक की मैल, नेटा।
 सिनकना—(हिं. क्रि. अ.) नाक का मैल,
 साँस के झोके से बाहर निकालना।
 सिनि—(हिं. पुं.) एक यादव जो सात्यकि
 का पिता था, क्षत्रियों की एक शाखा।
 सिनीवाली—(सं. स्त्री.) अंगिरा की पुत्री
 का नाम, दुर्गा।
 सिनेमा—(अ. पुं.) चित्रपट पर प्रदर्शित
 आधुनिक यांत्रिक मनोरंजन, इसका भवत;

-घर-(पुं) वह स्थान जहाँ सिनेमा का प्रदर्शन होता है ।
 सिन्धी-(हि.स्त्री.) मिठाई आदि जो किसी देवता को चढ़ाकर प्रसाद की तरह बाँटी जाती है ।
 सिपाका भाथी-(हि. स्त्री.) लोहारों या सोनारों की हाथ से चलाने की भाथी ।
 सिपारस, सिपारिख-(हि. स्त्री.) देखें 'सिफारिश' ।
 सिपारसी-(हि. वि.) देखें 'सिफारिशी' ।
 सिपाहियाना-(फा. वि.) सिपाही-जैसा, सिपाही का ।
 सिपाही-(फा.पुं.) सैनिक, योद्धा, पुलिस, चपरासी ।
 सिपुर्द, सपुर्द-(हि. वि.) सौंपा हुआ ।
 सिप्पा-(हि. पुं.) लक्ष्य-ब्रेव, युक्ति, ढंग, प्रारम्भिक कार्य, प्रभाव, धाक; (मुहा.) -जमाना, भिड़ाना या लड़ाना-किसी कार्य को पूरा करने के लिये उपाय लगाना ।
 सिप्रा-(सं. स्त्री.) उज्जयिनी की एक प्रसिद्ध नदी ।
 सिफारिख-(फा. स्त्री.) किसी के गुणों का दूसरे से अनुमोदन करना ।
 सिफारिशी-(फा.वि.) सिफारिख-संबंधी ।
 सिविका-(हि. स्त्री.) देखें 'शिविका' ।
 सिमंत-(हि. पुं.) देखें 'सीमंत' ।
 सिमई-(हि. स्त्री.) सिवई ।
 सिमट-(हि. स्त्री.) सिमटने की क्रिया या भाव ।
 सिमटना-(हि. क्रि. अ.) सिकुड़ना, संकुचित होना, सिटपिटाना, बटुरना, बटोरा जाना, निवटना, लज्जित होना ।
 सिमटी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का कपड़ा ।
 सिमरगोला-(हि. पुं.) एक प्रकार की वर्तुल वास्तु-रचना ।
 सिमरना-(हि. क्रि. स.) देखें 'सुमिरना' ।
 सिमरिख-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की चिड़िया ।
 सिमल-(हि. पुं.) जुए में लगी हुई खूँटी ।
 सिमाना-(हि. पुं.) सीवाना, हृद ।
 सिमितना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'सिमटना' ।
 सिमति-(हि. स्त्री.) देखें 'स्मृति' ।
 सिमंट-(अं. पुं.) मकान आदि पलस्तर करने का पत्थर आदि का चूर्ण ।
 सिमेटना-(हि. क्रि. स.) समेटना ।
 सिम्माल-(सं. पुं.) सिंदुवार, निर्गुंडी ।
 सिय-(हि. स्त्री.) सीता, जानकी ।
 सियाना-(हि. क्रि. स.) उपजाना, रचना, सीना ।
 सियरा-(हि. वि.) शीतल, ठंडा, कच्चा ।

सियराई-(हि. स्त्री.) शीतलता, ठंडा-पन ।
 सियराना-(हि. क्रि. अ.) ठंडा होना, शीतल होना ।
 सिया-(हि. स्त्री.) जानकी, सीता ।
 सियाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'सिलवाना' ।
 सियापा-(हि. पुं.) मृत व्यक्त के शोक में कुछ काल तक बहुत-सी स्त्रियों का प्रति-दिन इकट्ठा होकर रोने की चाल, मातम ।
 सियार-(हि. पुं.) शृगाल, गीदड़; -लाठी-(पुं.) अमलतास ।
 सियारा-(हि. पुं.) वह उपकरण जिससे जुती हुई भूमि बराबर की जाती है ।
 सियाल-(हि. पुं.) देखें 'सियार', शृगाल, गीदड़ ।
 सियाला-(हि. पुं.) शीत काल, जाड़े की ऋतु ।
 सियाली-(हि. स्त्री.) जाड़े की ऋतु की उपज ।
 सियावड़ी-(हि. स्त्री.) वह काली हाँडी जो चिड़ियों को डराने के लिये खेत में रखी जाती है ।
 सियाह-(फा. वि.) काला ।
 सियाहा-(फा. पुं.) रोजनामचा, कर्मचारी की कार्य-तालिका, लगान की वसूली की वही ।
 सियाही-(फा.स्त्री.) कालापन, श्यामलता, रोशनाई ।
 सिर-(हि. पुं.) शिर, कपाल, खोपड़ी, सिरा, चोटी, ऊपरी छोर; (मुहा.) -आँखों पर आना-अति सत्कार किया जाना; -आँखों पर होना या बठाना-माननीय होना; -उठाना-उपद्रव मचाना, आमत्सम्मानपूर्वक रहना; -ऊँचा करना-अभिमान के साथ लोगों के बीच रहना; -खपाना- अधिक सोच-विचार करना; -खाना-ब्रकवाद से परेशान करना; -खाली करना-व्यर्थ ब्रकवाद करना; -घूमना-मस्तक में पीड़ा होना; -चकराना-सिर में चक्कर आना; -चढ़ाना-आदर दिखलाना, बढ़ावा देना; -झुकाना-लज्जा से गरदन नीची करना, प्रणाम करना; -देना-जान देना; -धरना-स्वीकार करना; -धुनना-पछतावा करना; -नीचा करना-लज्जा-वश सिर झुकाना; -पटकना-बहुत परिश्रम करना, दुःखी होना; -पर शाना-मृत-प्रेत का प्रभाव होना; -पर खून सवार होना-हत्या करने पर उत्तार होना; -पर पड़ना-जिम्मे होना; -पर पाँव

रखना-जल्दी से भाग जाना; -पर सींग निकलना-कोई अनहोनी बात होना; -पर होना-सहायक होना; -फिरना-सिर चकराना; -मारना-सोचते-सोचते व्यग्र होना; -मुड़ाते ही ओला पड़ना-किसी कार्य के आरंभ होते ही विघ्न पड़ना; -से पैर तक-आद्योपान्त, पूर्णरूप से; -से पर तक आग लगना-अति क्रुद्ध होना; -से खेल जाना-प्राण दे देना; -होना-जिम्मे होना ।
 सिरई-(हि. स्त्री.) चारपाई में सिरहाने की पाटी ।
 सिरकटा-(हि. वि.) जिसका सिर कट गया हो, दूसरे को हानि पहुँचानेवाला ।
 सिरका-(फा. पुं.) खमीर उठाया हुआ ईख आदि का रस, आम का मीठा अचार ।
 सिरकी-(हि. स्त्री.) सरकंडा, सरई, सरहरी, सरई की तीलियों की बनी हुई टट्टी जो भीत या गाड़ियों पर धूप या पानी से बचाने के लिये लगाई जाती है ।
 सिरखप-(हि. वि.) परीश्रमी, सिर खपानेवाला ।
 सिरखपी-(हि. स्त्री.) परिश्रम, माथापच्ची ।
 सिरखिली-(हि. स्त्री.) एक प्रकार की चिड़िया ।
 सिरगा-(हि. स्त्री.) घोड़े की एक जाति ।
 सिरगिरी-(हि. स्त्री.) चिड़ियों के सिर पर की कलंगी ।
 सिरचंद-(हि. पुं.) एक प्रकार का अर्ध-चन्द्राकार गहना जो हाथी के मस्तक पर पहनाया जाता है ।
 सिरजक-(हि. पुं.) सृष्टिकर्ता, रचना करनेवाला ।
 सिरजन-(हि. पुं.) निर्माण, सृष्टि; -हार-(पुं.) निर्माता, ऋषि ।
 सिरजना-(हि. क्रि. स.) सृष्टि करना, निर्माण करना, संचय करना, बनाना ।
 सिरजित-(हि. वि.) निर्मित, रचा हुआ ।
 सिरताज-(हि. पुं.) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु, शिरोमणि, सरदार, मुकुट ।
 सिरतान-(हि. पुं.) कृपक, अंसामी ।
 सिरत्राण-(हि. पुं.) देखें 'शिरस्त्राण' ।
 सिरदार-(हि. पुं.) देखें 'सरदार' ।
 सिरदुआली-(हि. स्त्री.) घोड़े की लगाम में लगी हुई डोरी या चमड़े का पट्टा ।
 सिरनेत-(हि. पुं.) पगड़ी, चौरा, धत्रियों की एक शाखा ।
 सिरपाव-(हि. पुं.) देखें 'सिरोपाव' ।
 सिरफूल-(हि.पुं.) स्त्रियों का एक आमूषण

जिसको वे सिर पर पहनती हैं।

सिरफेंटा, सिरबंद—(हिं. पुं.) पगड़ी, मुरैठा।

सिरबंदी—(हिं. स्त्री.) मस्तक पर पहनने का स्त्रियों का एक आभूषण, एक प्रकार का रेशम का कीड़ा।

सिरमगजन—(हिं. पुं.) माथापच्ची।

सिरमनि—(हिं. पुं.) देखें 'शिरोमणि'।

सिरमौर—(हिं. पुं.) शिरोमणि, सिर पर पहनने का मुकुट।

सिररूह—(हिं. पुं.) देखें 'शिरोरूह'।

सिरवा—(हिं. पुं.) ओसाने में हवा करने का कपड़ा।

सिरवार—(हिं. पुं.) भूस्वामी का वह भृत्य जो उसकी खेती का प्रबन्ध करता है।

सिरस—(हिं. पुं.) शीशम की तरह का एक प्रकार का ऊँचा वृक्ष, एक प्रकार का लसदार रासायनिक द्रव।

सिरसौ—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का तीतर।

सिरहाना—(हिं. पुं.) चारपाई में सिर की ओर का भाग।

सिरा—(सं. स्त्री.) रक्तवाहिनी 'नाड़ी, शिरा, सिंचाई की नाली, पानी की पतली धारा, कलश, गगरा; (हिं. स्त्री.) लंबाई का अन्त, छोर, अन्तिम भाग, आरंभ का भाग, अग्रभाग; **सिरे का**—अत्युत्तम।

सिराजी—(हिं. पुं.) शीराज का घोड़ा या कवूतर।

सिराना—(हिं. क्रि. अ., स.) शीतल होना, ठंडा होना, उत्साहहीन होना, समाप्त होना, दूर होना, मिटना, अवकाश मिलना, समाप्त होना, शीतल करना।

सिरामोक्ष—(सं. पुं.) दूषित रक्त निकालने के लिये फसद खुलवाना।

सिराला—(सं. स्त्री.) एक प्रकार का पौधा, कमरख।

सिराली—(हिं. स्त्री.) मोर के सिर पर की कलंगी।

सिरावन—(हिं. पुं.) खेत चौरस करने का हेंगा।

सिरावना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'सिराना'।

सिरावृत्त—(सं. पुं.) सीसक, सीसा।

सिराहर्ष—(सं. पुं.) आँख के डोरों की लाली।

सिरियारी—(हिं. स्त्री.) सुसना का साग।

सिरी—(हिं. स्त्री.) श्री, लक्ष्मी, शोभा, रौली, माथे पहनने पर का एक आभूषण; **पंचमी**—(स्त्री.) श्रीपंचमी, वसंत-पंचमी।

सिरीस—(हिं. पुं.) देखें 'सिरस'।

सिरोना—(हिं. पुं.) घड़ा रखने का रस्सी का बना हुआ मंडरा, इंडुरी, बिड़वा।

सिरोपाव—(हिं. पुं.) सिर से पैर तक का पहनावा जो राजा की ओर से सम्मान के रूप में दिया जाता था।

सिरोमनि—(हिं. पुं.) देखें 'शिरोमणि'।

सिरोरूह—(हिं. पुं.) देखें 'शिरोरूह'।

सिरोही—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की काली चिड़िया, राजपूताना का एक स्थान।

सिर्का—(हिं. पुं.) देखें 'सिरका'।

सिल—(हिं. स्त्री.) शिला, पत्थर, चट्टान, पत्थर की पटिया जिस पर बट्टे से मसाला आदि पीसा जाता है, पत्थर की चिकनी की हुई चौकोर पटिया; (पुं.) बलुत की जाति का एक वृक्ष।

सिलक—(हिं. स्त्री.) लड़ी, हार, पंक्ति; (पुं.) धागा।

सिलकौ—(हिं. पुं.) बेल।

सिलखड़ी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का चिकना कोमल पत्थर जिसके पात्र बनाये जाते हैं।

सिलगना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'सुलगना'।

सिलप—(हिं. पुं.) देखें 'शिल्प'।

सिलपट—(हिं. वि.) चौरस, बराबर, घिसा हुआ, नष्ट, चौपट; (पुं.) चप्पल, जूती।

सिलपोहनी—(हिं. स्त्री.) विवाह की एक रीति।

सिलफोड़ा—(हिं. पुं.) पत्थरचड़।

सिलमाकुर—(हिं. पुं.) पाल बनानेवाला।

सिलवट—(हिं. स्त्री.) सिकुड़न।

सिलवाना—(हिं. क्रि. स.) सीने का काम दूसरे से कराना।

सिलसिला—(अ. पुं.) क्रम, शृंखला, तर-तीव।

सिलसिलावार—(अ. वि.) क्रमबद्ध।

सिलहट—(हिं. पुं.) एक प्रकार का अगहनिया धान।

सिलहटिया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की नाव।

सिलहार, सिलहारा—(हिं. पुं.) अनाज कटने के बाद खेत में गिरे हुए अन्न के दानों को बीननेवाला।

सिलहिला—(हिं. वि.) जिस पर पैर फिसले, चिकना।

सिलही—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की चिड़िया।

सिला—(हिं. स्त्री.) शिला, फसल कटने के बाद खेत में गिरे हुए अन्न के दानों को बटोरने की क्रिया, पछोड़ने या फटकने

के लिये रखा हुआ अन्न का ढेर; (अ. पुं.) बदला।

सिलाई—(हिं. स्त्री.) सीने का काम या ढंग, टाँका, सीयन, सीने का शुल्क।

सिलाजीत—(हिं. पुं.) देखें 'शिलाजीत', पत्थर की चट्टानों से निकलनेवाला एक प्रकार का लसदार निर्यास।

सिलाना—(हिं. क्रि. स.) सीने का काम दूसरे से कराना।

सिलावार्क—(हिं. पुं.) पत्थरफूल।

सिलारस—(हिं. पुं.) सिल्हक नामक वृक्ष का गोंद जो बहुत सुगन्धित होता है।

सिलावट—(हिं. पुं.) पत्थर गढ़नेवाला, संगतराश।

सिलासार—(हिं. पुं.) लोहा।

सिलाहर—(हिं. पुं.) फसल कटने के बाद खेत से अन्न के दाने बीनकर निर्वाह करनेवाला।

सिलाही—(हिं. पुं.) सैनिक।

सिलिया—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का पत्थर जो घर बनाने के काम में आता है।

सिलीमुख—(हिं. पुं.) देखें 'शिलीमुख'।

सिलेट—(हिं. स्त्री.) काले पत्थर की पतली पटरी जिस पर लड़के लिखते हैं।

सिलोच्च—(हिं. पुं.) एक प्राचीन पर्वत का नाम।

सिलौआ—(हिं. पुं.) सन के मोटे रेशे।

सिलौटा, सिलौटा—(हिं. पुं.) पत्थर का चिकना टुकड़ा, सिल और बट्टा।

सिलौटी—(हिं. स्त्री.) (भाँग, मसाला आदि) पीसने की छोटी सिल।

सिल्य—(हिं. पुं.) देखें 'शिल्प'।

सिल्लकी—(सं. स्त्री.) सलई का पेड़।

सिल्ला—(हिं. पुं.) अन्न के दाने जो फसल कट जाने पर पड़े रह जाते हैं, खलिहान में गिरा हुआ अन्न।

सिल्ली—(हिं. स्त्री.) पत्थरकी छोटी और पतली पटिया, हथियार पैना करने का पत्थर का छोटा टुकड़ा, लकड़ी का मोटा कुंदा।

सिल्ह, सिल्हक—(सं. पुं.) सिलारस नामक गन्ध-द्रव्य, इस नाम का वृक्ष।

सिव—(हिं. पुं.) देखें 'शिव'।

सिवई—(हिं. स्त्री.) गूँथे हुए मँदे के सूत-जैसे पूरे हुए महीन लच्छे जो चीनी के साथ दूध में पकाकर खाये जाते हैं।

सिवक—(सं. पुं.) सीनेवाला, दरजी।

सिवालगी—(हिं. स्त्री.) देखें 'शिवलगी'।

सिवा—(हिं. स्त्री.) देखें 'शिवा; (अव्य.) अलावा, सिवाय।

सिवाई—(हि. स्त्री.) देखें 'सिलाई' ।
 सिवान—(हि. पुं.) सरहद, गाँव के चारों ओर के खेत ।
 सिवाय—(अ. अव्य.) अलावा, वगैर ।
 सिवार, सिवाल—(हि. पुं.) शैवाल, जल में होनेवाली एक घास ।
 सिवाली—(हि. पुं.) एक प्रकार का हलके रंग का पत्ता ।
 सिष्ट—(हि. स्त्री.) बंसी की डोरी ।
 सिसकना—(हि. क्रि. अ.) एक-एककर लंबी साँस लेते हुए भीतर ही भीतर रोना, उलटी साँस लेना, खुलकर न रोना, व्याकुल होना ।
 सिसकारना—(हि. क्रि. अ., स.) मुख से सीटी के समान शब्द निकालना, लहकारना, सी-सी शब्द करना, पीड़ा आदि के कारण शीत्कार करना ।
 सिसकारी—(हि. स्त्री.) सीटी के समान शब्द, सिसकारने का शब्द, जीभ दबाकर मुख से साँस खींचने का शब्द, लहकारने की क्रिया ।
 सिसकी—(हि. स्त्री.) भीतर ही भीतर रोने में एक-एककर निकलनेवाला शब्द, सिसकारी, शीत्कार ।
 सिसिर—(हि. पुं.) देखें 'शिशिर' ।
 सिमु—(हि. पुं.) देखें 'शिशु', बालक ।
 सिमुमार—(हि. पुं.) सूँस ।
 सिसोदिया—(हि. पुं.) राजपूत क्षत्रियों की एक शाखा ।
 सिहपण—(हि. पुं.) वासक, अड़सा ।
 सिहरना—(हि. क्रि. अ.) ठंडक से कांपना, भयभीत होना, रोंगटे खड़े होना ।
 सिहरा—(हि. पुं.) देखें 'सिहरा' ।
 सिहराना—(हि. क्रि. स.) ठंड से कांपना, डराना ।
 सिहरी—(हि. स्त्री.) ठंड के कारण काँप-काँपी, भय, जूड़ी ।
 सिहान—(हि. स्त्री.) ईर्ष्या की दृष्टि से देखना, डाह करना, ललचना ।
 सिहाना—(हि. क्रि. अ., स.) ईर्ष्या करना ।
 सिहारना—(हि. क्रि. स.) ढूँढ़ना, अन्वेषण करना ।
 सिहिकना—(हि. क्रि. अ.) सूखना ।
 सिहंड—(सं. पुं.) सेहंड का पौधा ।
 सिहोड़—(हि. पुं.) सेहंड, थूहर ।
 सीक—(हि. पुं.) मूँज, सरपत आदि की पतली तीली, किसी तृण का महीन डंठल, तिनका, नाक का एक गहना, लौंग, कील, शंकु, खड़ी महीन धारी ।
 सीकर—(हि. पुं.) सीक में लगा हुआ

फूल या घूआ ।
 सीका—(हि. पुं.) पेड़-पौधों की महीन टहनी ।
 सीकिया—(हि. पुं.) एक प्रकार का महीन कपड़ा जिसमें सीक के समान महीन धारियाँ रहती हैं ।
 सींग—(हि. पुं.) शृंग, खुरवाले कुछ पशुओं के सिर के दोनों ओर शाखा के समान निकले हुए नुकीले अवयव, विषाण, पुरुष की इन्द्रिय; (मुहा.) (किसी के सिर पर)—जमना या होना—कोई विशिष्टता होना; —समाना—ठिकाना मिलना ।
 सींगड़ा—(हि. पुं.) वारूद रखने का सींग का चोंगा, मूल से बजाने का एक प्रकार का वाजा, सींगी ।
 सींगना—(हि. क्रि. स.) चुराये हुए पशु को सींग से पहचानना ।
 सींगरी—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की फली जिसकी तरकारी बनती है ।
 सींगी—(हि. स्त्री.) हरित के सींग का बना हुआ वाजा जो मुँह से बजाया जाता है, एक प्रकार की मछली, वह पोला सींग जिसके द्वारा दूषित रक्त चूसकर निकाला जाता है ।
 सींच—(हि. स्त्री.) सींचने की क्रिया, सिंचाई ।
 सींचना—(हि. क्रि. स.) पेड़-पौधों को पानी देना, पानी छिड़ककर तर करना, सिरोना ।
 सीबें—(हि. पुं.) सीमा, सरहद ।
 सी—(हि. वि. स्त्री.) 'सा' का स्त्री-लिंग रूप, समान, तुल्य; (स्त्री.) सीत्कार, वीज की बोआई ।
 सीउ—(हि. पुं.) शीत, ठंडक ।
 सीकचा—(हि. पुं.) छोटी-सी पतली छड़, तीली ।
 सीकर—(सं. पुं.) पानी की बूँद, छीटा, पसीना, कण ।
 सीकल—(हि. पुं.) डाल का पका हुआ आम, शस्त्रों का मुरचा छुड़ाने की क्रिया, सिकली ।
 सीकस, सीकसी—(हि. पुं., स्त्री.) ऊसर ।
 सीका—(हि. पुं.) सिर पर पहनने का एक प्रकार का आभूषण, देखें 'छीका' ।
 सीकाकाई—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का वृक्ष जिसकी फलियाँ रीठे की भाँति बाल मलने के काम में आती हैं ।
 सीकी—(हि. स्त्री.) छोटा सिकहर; (पुं.) छिद्र, छेद ।
 सीकुर—(हि. पुं.) जी, गेहूँ आदि की

वालों पर के पतले शूक ।
 सीख—(हि. स्त्री.) शिक्षा, सिखलाने की बात, परामर्श; (फा. स्त्री.) लोहे की पतली छड़ या सलाख ।
 सीखन—(हि. स्त्री.) शिक्षा, सीखना ।
 सीखना—(हि. क्रि. स.) ज्ञान प्राप्त करना, किसी से कोई बात जानना, किसी से कोई कार्य करने की विधि जानना, अभ्यास करना, अनुभव प्राप्त करना ।
 सीगारा—(हि. पुं.) एक प्रकार का मोटा कपड़ा ।
 सीजना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'सीझना' ।
 सीझ—(हि. स्त्री.) सीझने की क्रिया या भाव ।
 सीझना—(हि. क्रि. अ.) आँच और पानी के योग से पकना, आँच या गरमी पाकर मृदु होना, कष्ट सहना, दुःख झेलना, चमड़े का मसाला लगाने पर मृदु और चिकना होना, (सूद आदि) मिलने योग्य होना, ऋण का निवटारा होना ।
 सीट—(हि. स्त्री.) अभिम नपूर्ण शब्द, डींग ।
 सीटना—(हि. क्रि. अ.) डींग मारना ।
 सीटपटांग—(हि. स्त्री.) बड़-बड़कर बोलना घमंड से बरी हुई बात ।
 सीटी—(हि. स्त्री.) वह महीन शब्द जो ओठों को सिकोड़कर मुख से वेग से वायु निकालने पर उत्पन्न होता है, बाजे आदि का इस प्रकार का शब्द, वह वाजा या खिलौना जिसको फूँकने से इस प्रकार का शब्द निकलता है ।
 सीठना—(हि. पुं.) अश्लील गीत जो स्त्रियाँ विवाह के अवसर पर गाती हैं, गाली ।
 सीठनी—(हि. स्त्री.) देखें 'सीठना' ।
 सीठा—(हि. वि.) नीरस, फीका; —पन—(पुं.) फीकापन ।
 सीठी—(हि. स्त्री.) (किसी फल, फूल, पत्ते आदि का) रस निकाल लेने पर बचा हुआ अंश, निःसार पदार्थ ।
 सीड़—(हि. स्त्री.) सील, तरी, नमी ।
 सीड़ी—(हि. स्त्री.) निसैनी, जीना, ऊँचे स्थान पर चढ़ने के लिये दो बाँसों का बना हुआ लंबा ढाँचा जिस पर पैर रखने के लिये थोड़ी-थोड़ी दूर पर बड़े बल डंडे लगे होते हैं, आगे बढ़ने का क्रम ।
 सीत—(हि. पुं.) देखें 'शीत', ठंडक ।
 सीतल—(हि. वि.) देखें 'शीतल', ठंडा; —जीनी—(स्त्री.) देखें 'शीतलजीनी'; —पाटी—(स्त्री.) एक प्रकार की चिकनी चटाई, एक प्रकार का धारीदार कपड़ा; —शुकनी—(स्त्री.) सत्तु ।

सीतला—(हि. स्त्री.) देखें 'शीतला' ।
 सीता—(सं. स्त्री.) मिथिला के राजा जनक की कन्या जो श्रीरामचन्द्र को व्याही थी, वैदेही, जानकी, उमा, लक्ष्मी, मदिरा, भूमि जोतने में हल के फाल से बनी हुई रेखा, एक वर्ष-वृत्त का नाम ; -द्रव्य—(पुं.) खेती के उपादान ; -धर—(पुं.) बलरामजी ; -पति—(पुं.) श्रीरामचन्द्र ; -फल—(पुं.) शरीफा, कुम्हड़ा ; -रमण—(पुं.) श्रीरामचन्द्र ।
 सीताध्वज—(सं. पुं.) वह राजकर्मचारी जो राजा की निजी खेती-बारी का काम देखता है ।
 सीताहार—(सं. पुं.) एक प्रकार का पौधा ।
 सीतिनक—(सं. पुं.) मटर, दाल ।
 सीत्कार—(सं. पुं.) पीड़ा या आनन्द के समय मुख से साँस खींचने से उत्पन्न सी-सी शब्द, सिसकारी ।
 सीथ—(हिं. पुं.) पके हुए अन्न का दाना, भात का दाना ।
 सीद—(सं. पुं.) व्याज पर रुपया देना ।
 सीदना—(हिं. क्रि. अ., स.) दुःख पाना, कष्ट देना ।
 सीध—(सं. पुं.) आलस्य, सुस्ती ।
 सीध—(हिं. स्त्री.) ठीक सामने की स्थिति, सम्मुख विस्तार या लंबाई, लक्ष्य ।
 सीधा—(हिं. वि.) जो टेढ़ा न हो, बिना इधर-उधर मुड़े एक ओर जानेवाला, (मार्ग), जो ठीक लक्ष्य की ओर हो, जो कपटी न हो, शान्त, शिष्ट, सहज, दाहिना ; (अव्य.) सम्मुख, ठीक सामने की ओर ; (पुं.) आटा, चावल आदि ; -सीधी तरह—शिष्टता से ; -सादा—(वि.) सज्जन, भोला-भाला ; -पन—(पुं.) भोलापन ; (मुहा.) (किसीको) -करना—दण्ड देकर ठीक करना ।
 सीधु—(सं. पुं.) गुड़ की बनी हुई मदिरा ; -गंध—(पुं.) बकुल, मौलसिरी ; -पुष्पी—(स्त्री.) घव का वृक्ष ; -रस—(पुं.) आम का पेड़ ; -वृक्ष—(पुं.) थूहर ।
 सीध—(हिं. अव्य.) सम्मुख, ठीक सामने की ओर, बिना मुड़े हुए, शिष्टता से ।
 सीना—(हिं. क्रि. स.) (कपड़े, चमड़े आदि के टुकड़ों को) सूई और डोरे से जोड़ना, टाँका मारना ; (फा. पुं.) छाती ।
 सीनातोड़—(हिं. पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति ।
 सीनावाह—(हिं. पुं.) एक प्रकार का व्यायाम ।
 सीप—(हिं. पु., स्त्री.) शंख, घोंघे आदि की

जाति का एक जलजन्तु जो ताल, झील आदि में पाया जाता है, सीपी, सुतुही ।
 सीपज—(हिं. पुं.) मोती ।
 सीपति—(हिं. पुं.) देखें 'श्रीपति', विष्णु ।
 सीपर—(हिं. पुं.) ढाल ।
 सीपसुल—(हिं. पुं.) मुक्ता, मोती ।
 सीपिज—(हिं. पुं.) मोती ।
 सीपी—(हिं. स्त्री.) देखें 'सीप' ।
 सीवी—(हिं. स्त्री.) सी-सी का शब्द, सिसकारी ।
 सीमंत—(सं. पुं.) स्त्रियों की माँग, हिन्दुओं में एक संस्कार जो गर्भ-स्थिति के चौथे, छठे या आठवें महीने में किया जाता है, वैद्यक के अनुसार अस्थियों का सन्धि-स्थान ।
 सीमंतक—(सं. पुं.) सिन्दूर, एक प्रकार का मानिक (रत्न) ।
 सीमंतिनी—(सं. स्त्री.) नारी, स्त्री ।
 सीमंतोन्नयन—(सं. पुं.) हिन्दुओं के सोलह संस्कारों में से तीसरा संस्कार ।
 सीमांत—(सं. पुं.) सीमा, हद्द, सीमावर्ती क्षेत्र या प्रदेश ।
 सीमा—(सं. स्त्री.) किसी प्रदेश आदि के विस्तार का अन्तिम स्थान, हद्द, किनारा, भेड़, तीर, क्षेत्र, अंडकोष ; (मुहा.)—के बाहर जाना—अधिक होना, अतिक्रमण करना ; -बाँधना—सीमा स्थिर करना ; -कृषाण—(पुं.) किसान, खेत जोतनेवाला ; -गिरि—(पुं.) वह पर्वत जो सीमाप्रान्त पर हो ; -पाल—(पुं.) सीमा का रक्षक ; -बद्ध—(वि.) सीमाओं से घिरा हुआ, सीमा के भीतर किया हुआ ; -लिंग—(पुं.) सीमास्थल, सरहद्द, सीमा का चिह्न ; -विवाद—(पुं.) सीमा-संबंधी झगड़ा ; -वृक्ष—(पुं.) सीमा-स्थल पर लगा हुआ वृक्ष ; -संधि—(स्त्री.) दो प्रान्तों आदि की सीमाओं का मिलन-स्थल ; -सेतु—(पुं.) हृदयबंदी ।
 सीमातिक्रमण—(सं. पुं.) सीमा का उल्लंघन करना ।
 सीमातिबंध—(सं. पुं.) नियम, मर्यादा ।
 सीमाधिप—(सं. पुं.) सीमा का अध्यक्ष ।
 सीमिक—(सं. पुं.) एक प्रकार का छोटा क्रीड़ा, दीमक ।
 सीमेंट—(अं. पुं.) पत्थर आदि का विशेष रूप से बना हुआ चूर्ण जो पक्के मकान में पलस्तर करने के काम में आता है ।
 सीमोल्लघन—(सं. पुं.) सीमा लाँघना, सीमातिक्रमण, मर्यादा या कानून के विरुद्ध काम करना ।

सीय—(हिं. स्त्री.) सीता, जानकी ।
 सीयन—(हिं. स्त्री.) सिलाई ।
 सीर—(सं. पुं.) सूर्य, अर्क वृक्ष, हल, हल जोतनेवाला बैल ; (हिं. स्त्री.) वह भूमि जिसको भूस्वामी स्वयं बहुत दिनों से जोतता चला आता हो ।
 सीरक—(सं. पुं.) शिशुमार, सूस, सूर्य, हल ।
 सीरख—(हिं. पुं.) देखें 'शीख' ।
 सीरधर—(सं. पुं.) बलराम, हल धारण करनेवाला ।
 सीरध्वज—(सं. पुं.) चन्द्रवंशीय राजा जनक ।
 सीरन—(हिं. पुं.) बच्चों का पहनावा ।
 सीरनी—(हिं. स्त्री.) मिठाई चढ़ाना, सिद्धी ।
 सीरपति—(सं. पुं.) कृषक ।
 सीरपाणि—(सं. पुं.) हलधर, बलदेव ।
 सीरवाह, सीरवाहक—(सं. पुं.) हलवाहा, किसान ।
 सीरव—(हिं. पुं.) देखें 'शीर्ष' ।
 सीरा—(हिं. पुं.) पकाकर मधु के समान गाढ़ा किया हुआ चीनी का रस, चाशनी, हलवा, चारपाई का सिरहाना ; (वि.) शीतल, ठंडा ।
 सीरोसा—(हिं. पुं.) एक प्रकार की मिठाई ।
 सील—(हिं. स्त्री.) आर्द्रता, सीढ़, तरी ; (हिं. पुं.) देखें 'शील' ।
 सीला—(हिं. पुं.) अन्न के दाने जो फसल काट लेने पर खेत में पड़े रह जाते हैं, सिल्ला, खेत में गिरे हुए दानों को चुनकर निर्वाह करनेवाला ; (वि.) तर, गीला ।
 सीवड़ी—(हिं. पुं.) गाँव की सीमा, सिवान ।
 सीवन—(सं. पुं.) सीने का काम, सिलाई, सन्धि, जोड़ ।
 सीवनी—(सं. स्त्री.) वह रेखा जो अण्डकोष के बीचोबीच से मलद्वार तक जाती है ।
 सीस—(हिं. पुं.) मस्तक, माथा, सिर, कन्या ।
 सीसक—(सं. पुं.) सीसा नामक धातु ।
 सीसताज—(हिं. पुं.) आखेट करनेवाले पक्षी, (बाज आदि) के सिर पर पहनाने की टोपी ।
 सीसत्रान—(हिं. पुं.) शिरस्त्राण, टोप ।
 सीसपत्र, सीसपत्रक—(सं. पुं.) सीसा (धातु) ।
 सीसफूल—(हिं. पुं.) फूल के आकार का एक आभूषण जो सिर पर पहना जाता है ।
 सीसम—(हिं. पुं.) देखें 'शीशम' ।
 सीसल—(हिं. पुं.) केवड़े की तरह का एक क्षुप ।
 सीसा—(हिं. पुं.) एक मूल धातु जो बहुत भारी होती और जिसका रंग नीलापन लिये काला होता है ।

सीसी-(हि. स्त्री.) सीत्कार, सिसकारी, शीत आदि के कारण मुंह से निकलने-वाला शब्द ।

सीतो(सी)दिया-(हि. पुं.) देखें 'सिसो-दिया' ।

सीह-(हि. स्त्री.) गन्ध; (पुं.) सिंह; -गोस-(पुं.) एक प्रकार का हिंस्र जन्तु जिसके कान काले होते हैं ।

सुं-(हि. अव्य.) देखें 'सो' ।

सुखड़-(हि. पुं.) साधुओं का एक सम्प्रदाय ।

सुंधनी-(हि. स्त्री.) तंबाकू के पत्ते की महीन बुकनी जो सूंधी जाती है, नस्य, हुलास ।

सुंधाना-(हि. क्रि. स.) कोई चीज किसी की नाक से लगाकर सूंधने की क्रिया कराना ।

सुंड-(हि. पुं.) शूंड; -भुसुंड-(पुं.) हाथी ।

सुडा-(हि. पुं.) शूंड, सूंड ।

सुडाल-(हि. पुं.) हाथी ।

सुंदर-(सं. वि.) जो देखने में अच्छा लगे, आकर्षक रूपवाला, खूबसूरत, भला, अच्छा; (पुं.) कामदेव; -ता-(स्त्री.), -त्व-(पुं.) सुंदर होने का भाव, सौंदर्य, खूबसूरती; -ताई-(हि. स्त्री.) सुंदरता ।

सुंदरी-(सं. वि. स्त्री.) 'सुंदर' का स्त्रीलिंग रूप; (स्त्री.) रूपवती स्त्री, एक योगिनी, एक वर्ण-वृत्त ।

सुंधावट-(हि. स्त्री.) सोंधापन, सोंधी महक ।

सुवा-(हि. पुं.) स्पंज, दागी हुई तोप या बंदूक की गरम नली को ठंडा करने के लिये उस पर डाला जानेवाला गीला कपड़ा, पुचारा, तोप की नली स्वच्छ करने का गज, लोहार का गरम लोहे में छेद करने का अस्त्र ।

सुवी, सुंधी-(हि. स्त्री.) छेनी जिससे लोहे में छेद किया जाता है ।

सु-(सं. उप.) एक उपसर्ग जिसको शब्दों में जोड़ने से उत्तम, श्रेष्ठ, सुंदर आदि अर्थ सूचित होता है; (वि.) अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ; (सर्व.) वह, सो ।

सुगटा-(हि. पुं.) शुक, सुग्गा ।

सुगन-(हि. पुं.) पुत्र, बेटा, देखें 'सुगन'; -जर्द-(पुं.) देखें 'सोनजर्द' ।

सुगना-(हि. क्रि. अ.) उत्पन्न होना; (पुं.) सुग्गा, तोता ।

सुगर-(हि. पुं.) शूकर, सूअर ।

सुगवसर-(सं. पुं.) अच्छा अवसर, अच्छा मौका ।

सुआ-(हि. पुं.) देखें 'सूआ', तोता ।

सुआउ-(हि. वि.) दीर्घायु, दीर्घजीवी ।

सुआद-(हि. पुं.) स्वाद ।

सुआमी-(हि. पुं.) देखें 'स्वामी' ।

सुआर-(हि. पुं.) सूफकार, रसोइया ।

सुआरव-(हि. वि.) मीठे स्वर से बोलने-वाला ।

सुआसन-(सं. पुं.) बैठने का सुंदर आसन ।

सुआसिनी-(हि. स्त्री.) 'पड़ासिन' ।

सुआहित-(हि. पुं.) तलवार चलाने के बत्तीस हाथों में से एक हाथ ।

सुई-(हि. स्त्री.) देखें 'सूई' ।

सुकंटका-(सं. स्त्री.) धीकुआर, पिण्ड-खजूर ।

सुकंठ-(सं. वि.) जिसका कंठ सुंदर हो, सुरीला; (पुं.) सुग्रीव का एक नाम ।

सुकंठी-(सं. स्त्री.) गन्धर्व की स्त्री ।

सुकंद-(सं. पुं.) कसेरू ।

सुक-(हि. पुं.) शुक, सुग्गा, कीर, सिरिस का वृक्ष ।

सुकचाना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'सुकुचाना' ।

सुकटि-(सं. वि. स्त्री.) सुंदर कमरवाली ।

सुकट्ट-(सं. पुं.) सिरिस का पेड़ ।

सुकड़ना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'सिकुड़ना' ।

सुकथा-(सं. स्त्री.) उत्तम कथा, सुवाक्य ।

सुकनासा-(हि. वि.) जिसकी नाक सुगने के ठोर के समान हो ।

सुकनासिका-(सं. वि. स्त्री.) सुंदर नाक-वाली ।

सुकन्यक-(सं. वि.) जिसको सुंदर कन्या हो ।

सुकन्या-(सं. स्त्री.) सुंदर कन्या ।

सुकपोल-(सं. वि.) जिसके गाल सुंदर हों ।

सुकमल-(सं. पुं.) सुंदर कमल ।

सुकर-(सं. वि.) सुसाध्य, जो सहज में किया जा सके ।

सुकरता-(सं. स्त्री.) सुकर होने का भाव, सुंदरता, सरलता ।

सुकरा-(सं. स्त्री.) अच्छी गाय ।

सुकरात-(अ. पुं.) प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक ।

सुकराना-(हि. पुं.) देखें 'शुक्राना' ।

सुकरित-(हि. वि.) शुभ, अच्छा ।

सुकण-(सं. वि.) जिसके कान सुंदर हों ।

सुकर्म-(सं. पुं.) सत्कर्म, अच्छा काम, ज्योतिष के सत्ताईस योगों में से एक ।

सुकर्मा, सुकर्मी-(सं. वि.) अच्छा काम करनेवाला, सदाचारी, पुण्यवान् ।

सुकल-(हि. पुं.) देखें 'शुक्ल', एक प्रकार का आम जो सावन में पकता है ।

सुकल्प-(सं. वि.) अति निपुण ।

सुकल्पित-(सं. वि.) अच्छी तरह कल्पना या चिंतन किया हुआ ।

सुकवाना-(हि. क्रि. अ.) अचंभे में पड़ना ।

सुकवि-(सं. पुं.) अच्छा कवि ।

सुकांडी-(सं. पुं.) भ्रमर, भौरा ।

सुकांत-(सं. वि.) बहुत सुंदर ।

सुकांति-(सं. वि.) सुंदर कान्तिवाला ।

सुकाज-(हि. पुं.) उत्तम कार्य, अच्छा काम ।

सुकाल-(सं. पुं.) सुसमय, उत्तम समय, वह वर्ष जो अन्न आदि की उपज के लिये अच्छा हो ।

सुकावना-(हि. क्रि. स.) देखें 'सुखाना' ।

सुकाशन-(सं. वि.) बहुत चमकीला ।

सुकिज-(हि. पुं.) सुकृत, शुभ कार्य ।

सुकिया-(हि. स्त्री.) देखें 'स्वकीया' ।

सुकी-(हि. स्त्री.) सुग्गी, तोते की मादा ।

सुकीउ-(हि. स्त्री.) स्वकीया नायिका ।

सुकीति-(सं. स्त्री.) अच्छी कीर्ति; (वि.) अच्छे यशवाला ।

सुकुंडल-(सं. पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम ।

सुकुआर-(हि. वि.) देखें 'सुकुमार' ।

सुकुचा-(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसके स्तन सुंदर हों ।

सुकुड़ना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'सिकुड़ना' ।

सुकुति-(हि. स्त्री.) शक्ति, सीप ।

सुकुमार-(सं. वि.) जिसके अंग कोमल हों; (पुं.) सुंदर कोमल अंगोंवाला बालक, वनचम्पा, तमाकू का पत्ता, वह काव्य जो कोमल अक्षरों या शब्दों से युक्त हो ; -ता-(स्त्री.) कोमलता ।

सुकुमारा-(सं. स्त्री.) चमेली, जूही, मालती ।

सुकुमारिका-(सं. स्त्री.) केले का वृक्ष ।

सुकुमारी-(सं. स्त्री.) कन्या, वालिका; (वि. स्त्री.) कोमलांगी, कोमल अंगोंवाली ।

सुकुरना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'सिकुड़ना' ।

सुकुल-(सं. पुं.) उत्तम वंश या कुल; (वि.) जो उत्तम कुल में उत्पन्न हो, (हि. वि. पुं.) देखें 'शुक्ल'; -ता-(स्त्री.) कुलीनता ।

सुकुवा(वाँ)र-(हि. वि.) देखें 'सुकुमार' ।

सुकुसुमा-(सं. स्त्री.) स्कन्द की एक मातृका का नाम ।

सुकृत-(सं. पुं.) सत्कार्य, पुण्य, दान, दया, पुरस्कार; (वि.) धार्मिक, पुण्यवान् ।

सुकृतात्मा-(सं. वि.) पुण्यात्मा, धर्मात्मा ।

सुकृति-(सं. स्त्री.) शुभ कार्य, अच्छा काम; (वि.) सुकृत ।

सुकृती-(सं. वि.) धार्मिक, पुण्यवान्, सत्कर्म करनेवाला, माग्यवान्, बुद्धिमान् ।

सुकृत्य-(सं. पुं.) धर्म-कार्य, पुण्य ।
 सुकृष्ट-(सं. वि.) अच्छी तरह जोता हुआ ।
 सुकेत-(सं. पुं.) आदित्य, सूर्य ।
 सुकेश-(सं. वि.) जिसके बाल सुंदर हों ।
 सुकेश-(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसके बाल सुंदर हों ।
 सुकेश-(सं. पुं.) सुमाली और माली नामक राक्षसों के पिता का नाम ।
 सुकेशी-(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम; (वि.) (वह स्त्री) जिसके बाल सुंदर हों ।
 सुकेसर-(सं. पुं.) सिंह, शेर ।
 सुकोमल-(सं. वि.) बहुत कोमल ।
 सुक्कान-(हिं. पुं.) पतवार ।
 सुक्कानी-(हिं. पुं.) मल्लाह ।
 सुक्क-(हिं. पुं.) देखें 'सुक्क' ।
 सुक्ता-(सं. स्त्री.) इमली ।
 सुकित-(हिं. स्त्री.) शुकित, सीप ।
 सुक्र-(हिं. पुं.) देखें 'शुक्र' ।
 सुकित-(हिं. वि.) देखें 'सुकृत' ।
 सुक्ष्म-(हिं. वि.) देखें 'सूक्ष्म' ।
 क्षेत्र-(सं. पुं.) दसवें मनु के पुत्र का नाम, सुअच्छा खेत; (वि.) उत्तम क्षेत्रोंवाला ।
 सुखंडी-(हिं. स्त्री.) वच्चों का एक रोग जिसमें उनका संपूर्ण शरीर सूख जाता है; (वि.) बहुत दुबला-पतला ।
 सुखंद-(हिं. वि.) आनन्द देनेवाला, सुखद ।
 सुख-(सं. पुं.) आत्मा या मनोवृत्ति को अच्छा लगनेवाला वह अनभव जिसकी सब को अभिलाषा रहती है, आरोग्य, स्वर्ग, जल, एक वर्ष-वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में छत्रवीस अक्षर होते हैं; (वि.) प्रसन्न, आनंदित; (मुहा.)-की नौद सोना-निश्चित होकर रहना; -आसन-(पुं.) पालकी, डोली; -कंद-(वि.) सुख देनेवाला; -कंदर-(वि.) जो सुख का आकर हो; -कर-(वि.) सुख देनेवाला; -करण-(वि.) आनन्द उत्पन्न करनेवाला; -कारक-(वि.) सुखदायक, सुख देनेवाला; -कारी-(वि.) सुख देनेवाला; -कृत-(वि.) सहज में किया जानेवाला; -क्रिया-(स्त्री.) सहज काम; -गंध-(वि.) सुंदर गन्धवाला; -ग-(वि.) सुखपूर्वक जानेवाला; -गम-(वि.) सुगम; -ग्राह्य-(वि.) जो सहज में लिया जा सके; -चर-(वि.) आराम से चलनेवाला; -जनक-(वि.) आनन्ददायक; -जननी-(वि. स्त्री.) सुख देनेवाली; -जात-(वि.) प्रसन्न; -ज्ञ-(वि.) सुख को

जाननेवाला; -दरन-(हिं. वि.) सुखदायक; -द-(पुं.) विष्णु का निवास, ध्रुवताल; (वि.) सुख देनेवाला; -दा-(वि. स्त्री.) सुख देनेवाली; (स्त्री.) स्वर्ग की वेश्या, एक प्रकार का छन्द; -दाता-(वि., पुं.) आनन्द देनेवाला; -दान-(हिं. वि.) सुख देनेवाला; -दानी-(हिं. वि.) आनन्द देनेवाला; (स्त्री.) एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पचीस अक्षर होते हैं; -दायक-(वि.) आनन्द देनेवाला; -दायी-(वि.) सुखद, सुख देनेवाला; -दास-(हिं. पुं.) एक प्रकार का उम्दा अगहनिया धान; -दानी-(हिं. वि. स्त्री.) सुखदायिनी; -दनी-(हिं. वि. स्त्री.) आनन्द देनेवाली; -धाम-(पुं.) आनन्द का स्थान, स्वर्ग; -पाल-(हिं. पुं.) एक प्रकार की पालकी; -पूर्वक-(अव्य.) आनन्द से, सुख से; -प्रद-(वि.) सुख देनेवाला; -प्रबोधक-(वि.) सुख का भाव जगानेवाला; -प्रश्न-(पुं.) कुशल की बात पूछना; -प्रसव-(पुं.) बिना कष्ट के वच्चा जनना; -प्रसवा-(स्त्री.) सुख से संतान जननेवाली स्त्री; -प्रसुप्त-(वि.) आनन्द से सोया हुआ; -बद्ध-(वि.) आनन्ददायक; -बोध-(पुं.) सुख का अनुभव; -भागी-(वि.) सुखभोगी; -भेद्य-(वि.) शीघ्र टूटनेवाला; -भोग-(पुं.) सुख का भोग; -भोजन-(पुं.) स्वादिष्ट भोजन; -रात्रि-(स्त्री.) कार्तिक मास की अमावस्या, आनंद की रात; -वंत-(हिं. वि.) प्रसन्न, आनन्ददायक; -वह-(वि.) आनन्द देनेवाला; -वादी-(पुं.) सुख को सार्थक माननेवाला, विलासी; -वास-(पुं.) आनन्द का स्थान; -ज्ञायी-(वि.) सुख से सोनेवाला; -संचार-(वि.) सुख से घूमनेवाला; -साध्य-(वि.) जिसके साधन करने में कोई कष्ट न हो, सहज; -सार-(पुं.) मोक्ष; -सुप्त-(वि.) सुख से सोया हुआ; -सुप्ति-(स्त्री.) सुख की नीद; -सैव्य-(वि.) सुख से सेवन करने योग्य; -स्पर्श-(पुं.) सुखजनक स्पर्श ।
 सुखना-(हिं. क्रि. अ.) सूखना ।
 सुखमा-(हिं. स्त्री.) एक वर्णवृत्त, देखें 'सुपमा' ।
 सुखवन-(हिं. पुं.) वृष में सूखने के लिए डाला हुआ अनाज, इस प्रकार सूखने से

वजन में होनेवाली कमी ।
 सुखांत-(सं. वि.) जिसका अन्त सुखमय हो; -नाटक-(पुं.) वह नाटक जिसके अन्त में पुनर्मिलन, अभीष्ट-सिद्धि आदि घटित हो ।
 सुखागत-(सं. पुं.) स्वागत ।
 सुखादित-(सं. वि.) सुख से खाया हुआ ।
 सुखाधार-(सं. पुं.) स्वर्ग; (वि.) सुख का आधार-स्वरूप ।
 सुखाना-(हिं. क्रि. स.) अग्नि या धूप से किसी वस्तु का गीलापन दूर करना, गीलापन दूर करने की कोई क्रिया करना ।
 सुखानी-(हिं. पुं.) मल्लाह, मांझी ।
 सुखारा, सुखारी-(हिं. वि.) सुख देनेवाला, सुखी, प्रसन्न ।
 सुखाराध्य-(सं. वि.) सहज में ही प्रसन्न होनेवाला ।
 सुखारोहण-(सं. पुं.) सोपान, सीढ़ी ।
 सुखार्थी-(सं. वि.) सुख चाहनेवाला ।
 सुखाली-(सं. वि.) आनन्ददायक ।
 सुखावती-(सं. स्त्री.) बौद्धों के अनुसार एक स्वर्ग ।
 सुखावह-(सं. वि.) सुख देनेवाला ।
 सुखाश-(सं. पुं.) वरुण, तरबूज, वह भोजन जो खाने में अच्छा लगे ।
 सुखाशा-(सं. स्त्री.) सुख की आशा ।
 सुखासन-(सं. पुं.) वह आसन जिस पर बैठने से सुख मिलता हो, पालकी, डोली ।
 सुखासीन-(सं. वि.) सुख से बैठा हुआ ।
 सुखिआ-(हिं. वि.) देखें 'सुखिया' ।
 सुखित-(सं. वि.) देखें 'सुखी'; (हिं. वि.) शुष्क, सूखा हुआ ।
 सुखिता-(हिं. स्त्री.), सुखित्व-(सं. पुं.) सुखी होने का भाव, आनन्द ।
 सुखिया-(हिं. वि.) सुखी, प्रसन्न ।
 सुखिर-(हिं. पुं.) साँप के रहने का बिल, वाँवी ।
 सुखी-(सं. वि.) जो सुखपूर्वक दिन बिता रहा हो, सुख से युक्त, आनन्दित ।
 सुखीन-(हिं. पुं.) एक प्रकार की चिड़िया ।
 सुखन-(हिं. पुं.) देखें 'सुषेण' ।
 सुखलक-(सं. पुं.) एक प्रकार का वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में पन्द्रह अक्षर होते हैं ।
 सुखण्ड-(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 सुखोत्सव-(सं. पुं.) आनन्द का उत्सव ।
 सुखोद्य-(सं. वि.) जिसका उच्चारण करने में कठिनाई न हो ।
 सुख्याति-(सं. स्त्री.) प्रशंसा, यश, प्रसिद्धि ।

सुगंध-(सं. वि.) सुंदर गंधवाला, खुशबूदार; (पुं.) छोटा जीरा, नीलोत्पल, चन्दन, गन्धराज, गठिवन, चना, गन्धक, धूना, कुंदरु, वासमती चावल, केवड़ा, कसेरु; -गंधा-(स्त्री.) बाह्रहल्दी; -पत्रा-(स्त्री.) सतावर, विधारा; -पत्री-(स्त्री.) जावित्री; -वाला-(स्त्री.) एक प्रकार की सुगन्धित वनीषधि; -मय-(वि.) सुगन्धपूर्ण; -मुख्या-(स्त्री.) कस्तूरी; -मूल-(पुं.) हरफारेवड़ी; -मला-(स्त्री.) स्थल-कमल, हरफारेवड़ी; -मृषिका-(स्त्री.) छछूंदर; -बल्कल-(पुं.) वारचीनी; -शालि-(पुं.) वासमती चावल।
 सुगंधा-(सं. स्त्री.) असवर्ण, कपूर-कचरी, सोंठ, सलई, सौंफ, सेवती, माववी लता, बकुची।
 सुगंधि-(सं. स्त्री.) सुगन्ध, अच्छी महक; (पुं.) मोथा, कसेरु, धनिया, पिप्पलीमूल, तुंबुरु।
 सुगंधिका-(सं. स्त्री.) मृगनाभि, कस्तूरी, केवड़ा।
 सुगंधित-(सं. वि.) सुगंधयुक्त।
 सुगंधिमूल-(सं. पुं.) खस।
 सुगंधी-(सं. वि.) सुगंधयुक्त, खुशबूदार।
 सुगणक-(सं. पुं.) अच्छी गणना करनेवाला ज्योतिषी।
 सुगत-(सं. वि.) अच्छी चाल से जानेवाला; (पुं.) बुद्ध भगवान्।
 सुगति-(सं. स्त्री.) उत्तम गति, मोक्ष, एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सात मात्राएँ होती हैं और अन्त में एक गुरु वर्ण होता है।
 सुगना-(हिं. पुं.) देखें 'सहिजन', तोता।
 सुगम-(सं. वि.) सरल, सहज, जहाँ जाने में कठिनतान हो; -ता-(स्त्री.) सरलता।
 सुगम्य-(सं. वि.) सरलता से जाने या जानने योग्य, सुगम।
 सुगल-(हिं. पुं.) बालि का भाई सुश्रीव।
 सुगहन-(सं. वि.) अति घना, निविड़।
 सुगन्ध-(सं. वि.) सुंदर शरीरवाणा।
 सुगाना-(हिं. क्रि. स.) संदेह करना।
 सुगीति-(सं. स्त्री.) सुंदर गान।
 सुगीतिका-(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में पच्चीस मात्राएँ होती हैं तथा आदि में लघु और अन्त में गुरु अवसर होता है।
 सुगुप्त-(सं. वि.) अन्तों तरह छिपाया हुआ, गुप्त।

सुगुरु-(सं. वि.) जिसने अच्छे गुरु से मन्त्र लिया हो।
 सुगूढ-(सं. वि.) बहुत ही गूढ या गुप्त।
 सुगुहीत-(सं. वि.) अच्छी तरह ग्रहण किया हुआ।
 सुगोप-(सं. वि.) अच्छी तरह रखा करनेवाला।
 सुग्गा-(हिं. पुं.) शुक, तोता; -पंखी-(पुं.) एक प्रकार का अगहनिया धान।
 सुग्रीव-(सं. पुं.) विष्णु का घोड़ा, शंख, इन्द्र, रामजी का सखा और बालि का छोटा भाई, वानरपति, राजहंस, एक असुर का नाम; (वि.) सुंदर गरदनवाला।
 सुग्रीवा-(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम।
 सुघट-(सं. वि.) जो सहज में बन सकता हो, अच्छा बना हुआ, सुडौल, सुंदर।
 सुघटित-(सं. वि.) सुंदर ढंग से बना हुआ।
 सुघड़-(हिं. वि.) प्रवीण, निपुण, कुशल, सुडौल, सुंदर; -ई-(स्त्री.) निपुणता, सुडौलपन, सुंदरता; -ता-(स्त्री.) सुघड़पन; -पन-(पुं.) कुशलता, दक्षता, सुंदरता।
 सुघड़ाई; सुघड़ापा-(हिं. स्त्री.) सुंदरता, सुडौलपन, निपुणता, कुशलता।
 सुघर-(हिं. वि.) देखें 'सुघड़'; -ता-(स्त्री.) सुघड़ होने का भाव; -पन-(पुं.) कुशलता, दक्षता, सुंदरता।
 सुघराई-(हिं. स्त्री.) सुघड़ाई, सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी; -कान्हड़ा-(पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग; -दोड़ी-(स्त्री.) सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी।
 सुघरी-(हिं. स्त्री.) शुभ समय, अच्छा मुहूर्त; (वि. स्त्री.) सुंदर, सुडौल।
 सुघोर-(सं. वि.) अतिशय घोर, बहुत माड़ा।
 सुघोष-(सं. पुं.) नकुन के शब्द का नाम, मधुर ध्वनि।
 सुचंग-(हिं. पुं.) घोड़ा।
 सुचक्र-(सं. वि.) उत्तम चक्रयुक्त।
 सुचक्र-(सं. पुं.) शिव, महादेव, पण्डित, सुंदर आँव; (वि.) सुंदर आँगाँवाना।
 सुचतुर-(सं. वि.) अति चतुर।
 सुचत्ता-(हिं. क्रि. स.) संनय करना, डाढ़ा करना।
 सुचरित-(सं. वि.) सचचरित्र, मयाचारी; (पुं.) मयाचार।
 सुचरित्रा-(सं. स्त्री.) पतिपरायणा स्त्री, सती।
 सुचर्मा-(सं. पुं.) नोजान।
 सुचा-(हिं. वि.) देखें 'मुचि'; (स्त्री.)

चेतना, ज्ञान।
 सुचाना-(हिं. क्रि. स.) किसी को सोचने-समझने में प्रवृत्त करना, चिन्ता।
 सुचार-(हिं. वि.) सुंदर, मनोहर; (स्त्री.) सुचाल।
 सुचार-(सं. वि.) अति मनोहर, बहुत सुंदर; (पुं.) रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम।
 सुचाल-(हिं. स्त्री.) अच्छी चाल, सदाचार।
 सुचाली-(हिं. वि.) अच्छे चाल-चमन का, जिसका आचरण सुंदर हो।
 सुचिंतित-(सं. वि.) भली भाँति सोचा-विचारा हुआ।
 सुचिंतितार्थ-(सं. वि.) जिसने अच्छी तरह अर्थ समझ लिया हो।
 मुचि-(हिं. वि.) शुचि; (स्त्री.) मूई।
 सुचित-(हिं. वि.) किसी कार्य से निवृत्त।
 सुचितार्थ-(हिं. स्त्री.) मुचित-भाव, एकाग्रता, स्थिरता।
 सुचित्ती-(हिं. वि.) स्थिरचित्त, जो द्विविधा में न हो, निश्चित।
 सुचित-(सं. वि.) स्थिरचित्त, मान्द, जो अपने काम से निवृत्त हो गया हो।
 सुचित्र-(सं. पुं.) सुंदर चित्र।
 सुचित्ररु-(सं. पुं.) चीतना साँप।
 सुचित्रबीजा-(सं. स्त्री.) वायविरंग।
 सुचित्रा-(सं. स्त्री.) फूट नाम की ककड़ी।
 सुचिर्मत-(हिं. वि.) मयाचारी, घुड़ आचरणवाला।
 सुचिर-(सं. वि.) बहुत दिनों तक रहनेवाला।
 सुची-(हिं. स्त्री.) देखें 'पत्नी'।
 सुचुटी-(सं. स्त्री.) निगटा, मँडूसी।
 सुचेतन-(सं. वि.) अच्छी समझवाला।
 सुचेलरु-(सं. पुं.) सुंदर और महीन वस्त्र।
 सुचंडर-(हिं. वि.) देखें 'स्यचंडर'।
 सुचंडम-(हिं. वि.) सुधन, घोड़ा।
 सुचण्ड-(हिं. पुं.) सुधन, वचनार।
 सुचण्डी-(हिं. स्त्री.) मटारी।
 सुचन-(सं. पुं.) भाव, मयाचार, मयाचार, परिहार के भाव; -ता-(स्त्री.) मयाचार, मयाचारी।
 सुचन्ना-(सं. वि.) लगे हुए में उपास।
 सुचय-(सं. पुं.) फूल रूप में चित्र।
 सुचय-(सं. वि.) सुंदर चित्र।
 सुचय्य-(सं. पुं.) उत्तम भाव।
 सुचत-(हिं. पुं.) देखें 'सुचत'।
 सुचागर-(हिं. वि.) लगे में सुंदर।
 सुचांभर, प्रणयनमय।

सुजात—(सं. वि.) उत्तम कुल में उत्पन्न, सुंदर, विवाहित स्त्री-पुरुष से उत्पन्न; (पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 सुजातरिपु—(सं. पुं.) युधिष्ठिर।
 सुजाति—(सं. स्त्री.) उत्तम जाति; (वि.) अच्छे कुल का।
 सुजातिया—(हिं. वि.) अच्छे कुल का, अपनी जाति का।
 सुजान—(हिं. वि.) चतुर, निपुण, सच्चरित्र, प्रवीण, पण्डित; (पुं.) पति, प्रेमी, परमात्मा, ईश्वर; -ता—(स्त्री.) सुजान होने का भाव या धर्म।
 सुजानी—(हिं. वि.) ज्ञानी, पण्डित।
 सुजावा—(हिं. पुं.) वैलगाड़ी की वह लकड़ी जो फड़ में लगती है।
 सुजिह्व—(सं. वि.) मधुरभाषी।
 सुजीर्ण—(सं. वि.) अच्छी तरह पचा हुआ (अन्न)।
 सुजीवित—(सं. पुं.) सफल या सुखी जीवन।
 सुजोग—(हिं. पुं.) सुअवसर, अच्छा अवसर, सुयोग।
 सुजोधन—(हिं. पुं.) देखें 'सुयोधन'।
 सुजोर—(हिं. वि.) दृढ़।
 सुज्ञ—(सं. वि.) पण्डित, सुविज्ञ।
 सुज्ञान—(सं. पुं.) उत्तम ज्ञान, अच्छी जानकारी।
 सुज्ञाना—(हिं. क्रि. स.) समझा देना, बताना, दिखलाना।
 सुडकना—(हिं. क्रि. अ., स.) सिकुड़ना, निगल जाना, चाबुक लगाना।
 सुठ—(हिं. वि.) देखें 'सुठि'।
 सुठहर—(हिं. पुं.) अच्छा स्थान।
 सुठार—(हिं. वि.) सुडौल, सुंदर आकृति का।
 सुठि, सुठोना—(हिं. वि.) सुंदर, बढ़िया; (अव्य.) पूरा-पूरा।
 सुडकना—(हिं. वि. स.) पानी आदि को नाक से भीतर खींचना, नाक के मल को भीतर खींचना, पी जाना।
 सुडसुड़ान—(हिं. क्रि. अ., स.) सुड़-सुड़ शब्द उत्पन्न होना या करना, हुक्का पीना।
 सुडौल—(हिं. वि.) सुंदर आकृति का।
 सुडंग—(हिं. पुं.) अच्छी रीति या ढंग; (वि.) अच्छी चाल का, अच्छे ढंग का।
 सुडर—(हिं. वि.) प्रसन्न और दयालु, सुडौल, कृपापूर्ण।
 सुदार—(हिं. वि.) सुडौल, सुंदर।
 सुतंत-सुतंत्र—(हिं. वि.) स्वतंत्र।
 सुतंतु—(सं. पुं.) विष्णु, शिव, महादेव, एक दानव का नाम।
 सुतंत्रि—(सं. पुं.) वीन आदि तार के

वाजे अच्छी तरह बजानेवाला।
 सुत—(सं. पुं.) आत्मज, पुत्र, बेटा; (वि.) जात, उत्पन्न, पार्थिव; -त्व—(पुं.) सुत का भाव या धर्म; -दा—(वि. स्त्री.) पुत्र देनेवाली।
 सुतना—(हिं. पुं.) देखें 'सूथन'।
 सुतनु—(हिं. वि.) सुंदर शरीरवाला, कृशांग; -ता—(स्त्री.) शरीर की सुंदरता।
 सुतनू—(सं. स्त्री.) सुंदर स्त्री, कोमलांगी, उग्रसेन की कन्या का नाम।
 सुतप—(सं. पुं.) सूर्य, विष्णु।
 सुतपस्वी—(सं. पुं.) धीरे तपस्या करनेवाला।
 सुतप्त—(सं. वि.) अत्यन्त गरम।
 सुतरण—(सं. वि.) सुख से तैरने या पार करने योग्य।
 सुतरां—(सं. अव्य.) अतः, निदान, अत्यंत, और भी।
 सुतरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'सुतली'।
 सुतल—(सं. पुं.) पुराण के अनुसार छठा पाताल।
 सुतली—(हिं. स्त्री.) डोरी, रस्सी, सुतरी।
 सुतवाना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'सुलाना'।
 सुतहर—(हिं. पुं.) देखें 'सुतार'।
 सुतहा—(हिं. पुं.) सूत बेचनेवाला व्यापारी।
 सुतहार—(हिं. पुं.) देखें 'सुतार'।
 सुतही—(हिं. स्त्री.) देखें 'सुतुही'।
 सुता—(सं. स्त्री.) कन्या, पुत्री, लड़की।
 सुतात्मज—(सं. पुं.) नाती, पोता।
 सुतापति—(सं. पुं.) दामाद, जामाता।
 सुतार—(सं. वि.) अत्यन्त उज्ज्वल, उत्तम, अच्छा; (हिं. पुं.) शिल्पकार, बढ़ई, सुविधा।
 सुतारा—(सं. स्त्री.) सांख्य-दर्शन के अनुसार एक प्रकार की सिद्धि।
 सुतारी—(हिं. स्त्री.) मोचियों का सूजा जिससे वे जूता सीते ह, बढ़ई का काम; (पुं.) शिल्पकार।
 सुतार्थी—(सं. वि.) पुत्र की कामना करनेवाला।
 सुताल—(सं. वि.) सुंदर तालवाला।
 सुताली—(हिं. स्त्री.) देखें 'सुतारी'।
 सुतासुत—(सं. पुं.) दौहित्र, नाती।
 सुतिवत—(सं. वि.) बहुत तीता।
 सुतिनी—(सं. स्त्री.) पुत्रवती स्त्री।
 सुतिया—(हिं. स्त्री.) स्त्रियों का गले में पहनने का हंसुली नामक गहना।
 सुतीक्ष्ण—(सं. वि.) अति तीक्ष्ण।
 सुतीच्छन—(हिं. वि.) देखें 'सुतीक्ष्ण'।
 सुतुंग—(सं. पुं.) नारियल का वृक्ष।
 सुतुही—(हिं. स्त्री.) शुक्ति, सीपी।

सुतेजन—(सं. वि.) नुकीला, धारदार।
 सुतेजित—(सं. वि.) सुतीक्ष्ण।
 सुतोष—(सं. पुं.) सन्तोष, धैर्य।
 सुथना—(हिं. पुं.) देखें 'सूथन', पाजामा।
 सुथनी—(हिं. स्त्री.) स्त्रियों का पहनने का एक प्रकार का ढीला पाजामा, पिंडालू, रतालू।
 सुथरा—(हिं. वि.) स्वच्छ, निर्मल; -ई—(स्त्री.) स्वच्छता; -पन—(पुं.) स्वच्छता।
 सुथरेशाही—(हिं. पुं.) गुरु नानक के शिष्य सुथराशाह का चलाया हुआ सम्प्रदाय, इस सम्प्रदाय का अनुयायी।
 सुदंत—(सं. पुं.) अभिनय करनेवाला, नट; (वि.) सुंदर दांतोंवाला।
 सुदण्ड—(सं. वि.) सुंदर दांतोंवाला।
 सुदक्षिण—(सं. वि.) बहुत निपुण।
 सुदक्षिणा—(सं. स्त्री.) उत्तम दक्षिणा।
 सुदच्छिन—(हिं. वि.) देखें 'सुदक्षिण'।
 सुदत्त—(सं. वि.) अच्छे उद्योग से दिया हुआ।
 सुदरसन—(हिं. वि., पुं.) देखें 'सुदर्शन'।
 सुदर्शन—(सं. पुं.) विष्णु के चक्र का नाम, शिव; (वि.) देखने में सुंदर, मनोहर।
 सुदर्शना—(सं. स्त्री.) शुक्ल पक्ष की रात्रि, इंद्रपुरी; (वि. स्त्री.) रूपवती।
 सुदल—(सं. वि.) अच्छे दलों या पत्तोंवाला।
 सुदामा—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण का एक सखा, समुद्र, सागर, इंद्र का हाथी, ऐरावत; (स्त्री.) स्कन्ध की एक मातृका का नाम।
 सुदारुण—(सं. वि.) अत्यन्त भयंकर।
 सुदावन—(सं. पुं.) राजा जनक का एक मंत्री।
 सुदास—(सं. पुं.) ईश्वर की नियमतः उपासना करनेवाला, दिवोदास का पुत्र तथा त्रित्सु का राजा, एक प्राचीन जनपद का नाम।
 सुदि—(सं. स्त्री.) देखें 'सुदी'।
 सुदिन—(सं. पुं.) शुभ दिन, अच्छा दिन।
 सुदिनाह—(सं. पुं.) पुण्य दिवस, शुभ दि।
 सुदिव—(सं. वि.) दीप्तिमान्, चमकीला।
 सुदिवस—(सं. पुं.) देखें 'सुदिन'।
 सुदी—(हिं. स्त्री.) शुक्ल पक्ष, किसी महीने का उजाला पक्ष।
 सुदीति—(सं. वि.) बहुत चमकीला।
 सुदीपति—(हिं. स्त्री.) सुदीप्ति।
 सुदीप्ति—(सं. स्त्री.) अधिक प्रकाश।
 सुदीध—(सं. वि.) अति दीर्घ, बहुत लंबा; -फला—(स्त्री.) ककड़ी।
 सुदीर्घा—(सं. वि. स्त्री.) बहुत लंबी।
 सुदुःखित—(सं. वि.) बहुत दुःखी।

सुदुर्भगं—(सं. वि.) अभाग।
 सुदूर—(सं. वि.) बहुत दूर।
 सुदृढ़—(सं. वि.) बहुत दृढ़।
 सुदृश—(सं. वि.) देखने में सुंदर।
 सुदृष्ट—(सं. वि.) अच्छी तरह देखा हुआ।
 सुदेव—(सं. पुं.) उत्तम देवता।
 सुदेश—(सं. पुं.) उत्तम देश, सुंदर देश, उपयुक्त स्थान।
 सुदेष्णा—(सं. स्त्री.) राजा विराट् की पत्नी, कीचक की बहिन।
 सुदेश—(हिं. पुं.) देखें 'सुदेश', स्वदेश।
 सुदेह—(सं. पुं.) सुंदर शरीर; (वि.) सुंदर।
 सुद्व—(सं. पुं.) सौभाग्य, अच्छा भाग्य।
 सुद्धा—(हिं. अव्य.) समेत, सहित।
 सुद्धि—(हिं. स्त्री.) देखें 'शुद्धि'।
 सुद्युत—(सं. वि.) अति प्रकाशमान।
 सुद्विज—(सं. पुं.) उत्तम ब्राह्मण।
 सुधंग—(हिं. पुं.) अच्छा ढंग।
 सुध—(हिं. स्त्री.) स्मरण, स्मृति, चेतना, पता; (वि.) शुद्ध; (मुहा.)—दिलाना—स्मरण कराना; —न रहना—भूल जाना; —विसरना—(किसी को) भूल जाना; —विसारना—अचेत करना।
 सुधन—(सं. वि.) बड़ा धनी।
 सुधन्वा—(सं. वि.) उत्तम धनुष-धारण करनेवाला, धनुषिद्या में कुशल; (पुं.) विश्वकर्मा, विष्णु, कुरु का एक पुत्र।
 सुधबुध—(हिं. स्त्री.) चेतना, होश।
 सुधरना—(हिं. क्रि. अ.) दुरुस्त या ठीक होना, बिगड़े हुए का बनना।
 सुधराई—(हिं. स्त्री.) सुधारने की क्रिया, सुधार।
 सुधर्म—(सं. पुं.) उत्तम धर्म, पुण्य, किन्नरों के एक राजा का नाम; (वि.) धर्म-परायण।
 सुधर्मा—(सं. स्त्री.) देवसभा।
 सुधर्मा—(सं. वि.), सुधर्मा—(हिं. वि.) धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ।
 सुधवाना—(हिं. क्रि. स.) शोधन कराना।
 सुधांग—(सं. पुं.) चन्द्रमा।
 सुधांशु—(सं. पुं.) चन्द्रमा, कपूर; —रत्न—(पुं.) मोती।
 सुधा—(सं. स्त्री.) अमृत, मकरंद, थूहर, गंगा, ईट, विजली, दूध, जल, हरीतकी, हरे, पथवी, मधु, घर, चूना, अर्क, रस, त्रिप, एक प्रकार का वृत्त; —कंठ—(पुं.) कोकिल, कोयल; —क्षार—(पुं.) चूने का क्षार; —क्षालित—(वि.) चूना पोता हुआ; —गोह—(पुं.)

चन्द्रमा; —घट—(पुं.) सुधाकर, चन्द्रमा; —दीधिति—(पुं.) सुधांशु, चन्द्रमा; —धर—(पुं.) चन्द्रमा; (वि.) जिसके अधर में अमृत हो; —धवल—(वि.) चूने के समान सफेद; —धाम—(पुं.) चन्द्रमा; —धारा—(स्त्री.) अमृत की धारा; —धौत—(वि.) सफेदी किया हुआ; —निधि—(पुं.) चन्द्रमा, समुद्र, दण्डक वृत्त का एक भेद; —पाणि—(पुं.) धन्वतरि; —भुज, —भोजी—(पुं.) अमृत-पान करनेवाले देवता; —भृत्ति—(पुं.) चन्द्रमा; —मय—(वि.) अमृत से भरा हुआ; —मयूख—(पुं.) चन्द्रमा; —मूली—(स्त्री.) सालम मिस्री; —यौनि—(पुं.) चन्द्रमा; —रश्मि—(पुं.) सुधांशु, चन्द्रमा; —वास—(पुं.) चन्द्रमा, खीरा; —श्रवा—(पुं.) अमृत बरसानेवाला; —सदन—(पुं.) चन्द्रमा; —सिधु—(पुं.) अमृत का समुद्र; —सू—(पुं.) अमृत उत्पन्न करनेवाला, चन्द्रमा; —हर—(पुं.) गरुड़।
 सुधाई—(हिं. स्त्री.) सिधाई।
 सुधाकर—(सं. पुं.) चन्द्रमा।
 सुधाना—(हिं. क्रि. स.) सोधने का काम दूसरे से कराना, ठीक कराना।
 सुधार—(सं. पुं.) सुधारने या दोष दूर करने की क्रिया, संस्कार।
 सुधारक—(हिं. पुं.) त्रुटियों का संशोधन करनेवाला, संशोधक।
 सुधारना—(हिं. क्रि. स.) संशोधन करना, बिगड़े को बनाना, सँवारना।
 सुधारा—(हिं. वि.) सरल, सीधा।
 सुधि—(हिं. स्त्री.) देखें 'सुध'।
 सुधिति—(सं. स्त्री.) कुठार, कुल्हाड़ी।
 सुधी—(सं. पुं.) पण्डित, विद्वान्; (वि.) चतुर, धार्मिक, अच्छी बुद्धिवाला; (स्त्री.) नेक बुद्धि।
 सुधीर—(सं. वि.) बहुत धैर्यवाला।
 सुधूत—(सं. वि.) दृढ़ता से पकड़ा हुआ।
 सुधोद्भव—(सं. पुं.) धन्वतरि।
 सुधोद्भव—(सं. स्त्री.) हरीतकी, हरे।
 सुधौत—(सं. वि.) अच्छी तरह धुला या साफ किया हुआ।
 सुन्द—(सं. पुं.) बलमद्र का मूसल।
 सुन्दन—(सं. पुं.) कृष्ण के एक पुत्र का नाम।
 सुन्दा—(सं. स्त्री.) उमा, गौरी, दुष्यंत के पुत्र भरत की पत्नी, गाय, गौरीचन, नारी, स्त्री, कृष्ण की एक पत्नी का नाम, एक तिथि का नाम।
 सुन्दिनी—(सं. स्त्री.) एक वर्णवृत्त का

नाम, (इसको प्रबोधिता या मंजुभाषिणी भी कहते हैं।)
 सुन—(हिं. वि.) देखें 'सुन्न'।
 सुनकिरवा—(हिं. पुं.) एक प्रकार का हरे रंग का फर्तिगा, जुगनू।
 सुनक्षत्र—(सं. पुं.) शुभ नक्षत्र।
 सुनक्षत्रा—(सं. स्त्री.) कार्तिकेय की एक मातृका का नाम।
 सुनगुन—(हिं. स्त्री.) किसी बात का खूलने-वाला अस्पष्ट भेद, टोह, कानाफूसी।
 सुन्ना—(हिं. क्रि. स.) कानों से शब्द को ग्रहण करना, भली-बुरी या उलटी-सीधी बातें सहन करना; (मुहा.) सुनी-अनसुनी करना—किसी बात को सुनकर भी उस पर ध्यान न देना।
 सुनबहरी—(हिं. स्त्री.) एक तरह का कुष्ठ रोग।
 सुनय—(सं. पुं.) उत्तम नीति।
 सुनयन—(सं. वि.) सुंदर आँखोंवाला।
 सुनयना—(सं. स्त्री.) राजा जनक की पत्नी का नाम (वि. स्त्री.) सुंदर नेत्रोंवाली।
 सुनवाई—(हिं. स्त्री.) (मुकदमा, प्रार्थना आदि) सुनने की क्रिया या भाव।
 सुनवैया—(हिं. वि.) सुननेवाला, सुनानेवाला।
 सुनसर—(हिं. पुं.) एक प्रकार का गहना।
 सुनसान—(हिं. वि.) निर्जन, उजाड़; (पुं.) सन्नटा।
 सुनहरा, सुनहला—(हिं. वि.) सोने के रंग का, सोने का।
 सुनहो—(हिं. पुं.) श्वान, कुत्ता।
 सुनाई—(हिं. स्त्री.) देखें 'सुनवाई'।
 सुनाद—(सं. पुं.) शंख; (वि.) उत्तम शब्दयुक्त।
 सुनाना—(हिं. क्रि. स.) दूसरे को सुनने में प्रवृत्त करना, कर्णगोचर कराना, रारी-खोटी कहना, फटकारना।
 सुनाभ—(सं. पुं.) मनाक पर्वत, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 सुनाम—(सं. पुं.) यश, कीर्ति।
 सुनामा—(सं. वि.) यशस्वी, कीर्तिशाली।
 सुनायक—(सं. पुं.) कार्तिकेय के एक अनुचर का नाम।
 सुनार—(सं. पुं.) चटक, गीरेया, सांप का अंडा; (हिं. पुं.) सोने-चांदी के गहने बनानेवाला।
 सुनारी—(हिं. स्त्री.) सुनार का काम, सुनार की स्त्री; (सं. स्त्री.) उत्तम स्त्री।
 सुनाल—(सं. पुं.) लाल कमल।
 सुनावनी—(हिं. स्त्री.) परदेश से किसी

सम्बन्धी आदि की मृत्यु का समाचार आना, ऐसा समाचार पाकर स्नान करना ।
 सुनास्ता—(सं. स्त्री.) कौआठोंठी, सुंदर नाक ।
 सुनासिक—(सं. वि.) सुंदर नाकवाला ।
 सुनासिका—(सं. स्त्री.) सुंदर नाक ।
 सुनासीर—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 सुनिकृष्ट—(सं. वि.) अति निकृष्ट ।
 सुनिखात—(सं. वि.) अच्छी तरह खोदा हुआ ।
 सुनितंबिनी—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसका नितंब बहुत सुंदर हो ।
 सुनिद्र—(सं. वि.) गहरी नींद में सोया हुआ ।
 सुनिद्रा—(सं. स्त्री.) गहरी नींद ।
 सुनियत—(सं. वि.) अच्छी तरह संयत ।
 सुनिरूपित—(सं. वि.) अच्छी तरह निरूपित किया हुआ ।
 सुनिर्मल—(सं. वि.) अति स्वच्छ ।
 सुनिर्मित—(सं. वि.) अच्छी तरह बना हुआ ।
 सुनिश्चय—(सं. पुं.) दृढ़ निश्चय ।
 सुनिश्चल—(सं. वि.) अचल, स्थिर, दृढ़ ।
 सुनिश्चित—(सं. वि.) अच्छी तरह निश्चित किया हुआ ।
 सुनीति—(सं. स्त्री.) अच्छी नीति, राजा उत्तानपाद की पत्नी जो ध्रुव की माता थी ।
 सुनील—(सं. पुं.) नील कमल, अनार का वृक्ष ।
 सुनेत्र—(सं. पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; (वि.) सुंदर नेत्रोंवाला ।
 सुनेया—(हिं. वि.) सुननेवाला ।
 सुनोची—(हिं. पुं.) एक प्रकार का घोड़ा ।
 सुन्न—(हिं. वि.) निर्जीव, निःस्तब्ध, संवेदन-रहित; (पुं.) शून्य, सुन्ना ।
 सुन्नसान—(हिं. वि.) देखें 'सुनसान' ।
 सुन्ना—(हिं. पुं.) शून्य, विन्दु ।
 सुपक—(हिं. वि.) देख 'सुपक्व' ।
 सुपक्व—(सं. वि.) अच्छी तरह पका हुआ ।
 सुपक्ष—(सं. वि.) सुंदर पंखोंवाला ।
 सुपच—(हिं. पुं.) श्वपच, चाण्डाल, डोम ।
 सुपट—(सं. पुं.) सुंदर वस्त्र; (वि.) सुंदर वस्त्र धारण करनेवाला ।
 सुपत—(हिं. वि.) मानयुक्त, प्रतिष्ठायुक्त ।
 सुपत्र—(सं. पुं.) इंगुदी वृक्ष, हिंगोट, तेजपत्र; (वि.) सुंदर पत्तोंवाला ।
 सुपत्रा—(सं. स्त्री.) सतावर, पालक का साग, शालपर्णी ।
 सुपथ—(सं. पुं.) सन्मार्ग, अच्छा मार्ग, एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर होते हैं; (वि.) समतल ।
 सुपव्य—(सं. पुं.) वह आहार या भोजन जो रोगी के लिये हितकर हो ।

सुपद—(सं. वि.) सुंदर पैरोंवाला ।
 सुपद्म—(सं. पुं.) सुंदर कमल ।
 सुपन—(हिं. पुं.) स्वप्न, सपना ।
 सुपना—(हिं. पुं.) स्वप्न, सपना ।
 सुपनाना—(हिं. क्रि. अ., स.) स्वप्न दिखलाना, स्वप्न देखना ।
 सुपर्ण—(सं. पुं.) गरुड़, मुरगा, पक्षी, चिड़िया, विष्णु, गन्धर्व, अमलतास, नाग-केशर, किरण, घोड़ा, सेना के व्यूह की एक प्रकार की रचना, सुंदर पत्ता, (वि.) सुंदर पत्तोंवाला, सुंदर परोंवाला; -केतु—(पुं.) विष्णु; -राज—(पुं.) पक्षिराज, गरुड़; -सद्—(पुं.) विष्णु ।
 सुपर्णा—(सं. स्त्री.) गरुड़ की माता का नाम, पद्मिनी, कमलिनी ।
 सुपर्णिका—(सं. स्त्री.) शालपर्णी, पलाशी ।
 सुपर्णी—(सं. स्त्री.) सुपर्णा, अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक ।
 सुपर्णीतनय—(सं. पुं.) गरुड़ ।
 सुपलायित—(सं. वि.) गुप्त रूप से भागा हुआ ।
 सुपवित्र—(सं. वि.) अति पवित्र; (पुं.) एक छन्द जिसके पहले के बारह अक्षर गुरु और बाकी लघु होते हैं ।
 सुपात्र—(सं. पुं.) अच्छा पात्र, वह जो किसी कार्य के लिये उपयुक्त हो, विद्या आदि गुणयुक्त व्यक्ति ।
 सुपार—(सं. वि.) जिसको पार करने में कोई कठिनाई न हो ।
 सुपारी—(हिं. स्त्री.) नारियल की जाति का एक वृक्ष जिसके फल टुकड़े-टुकड़े काटकर पान के साथ खाये जाते हैं, डली ।
 सुपाश्व—(सं. पुं.) जैनियों के चौबीस तीर्थ-करों में से सातवें तीर्थकर का नाम ।
 सुपास—(हिं. पुं.) सुख, सुविधा ।
 सुपासी—(हिं. वि.) आनन्ददायक, सुख देनेवाला ।
 सुपिष्ट—(सं. वि.) अच्छी तरह पीसा हुआ ।
 सुपीत—(सं. वि.) गहरे पीले रंग का ।
 सुपुत्र—(सं. पुं.) उत्तम पुत्र, सपूत ।
 सुपुरुष—(सं. पुं.) सत्पुरुष, सज्जन, भला आदमी ।
 सुपुर्व—(हिं. पुं.) सौंपा हुआ ।
 सुपुष्ट—(सं. वि.) जो बहुत दृढ़ हो ।
 सुपुष्प—(सं. वि.) जिसमें सुंदर फूल लगे हों ।
 सुपुष्पा—(सं. स्त्री.) साँफ, सेवती ।
 सुपूत—(सं. वि.) अत्यन्त पवित्र; (हिं. पुं.) अच्छा पुत्र ।

सुपूती—(हिं. स्त्री.) सपूत होने का भाव, अच्छे पुत्रवाली स्त्री ।
 सुपूर—(सं. वि.) सहज में पूर्ण होने योग्य ।
 सुपूर्ण—(सं. वि.) विलकुल भरा हुआ ।
 सुपेती—(हिं. स्त्री.) देखें 'सफेदी' ।
 सुपेली—(हिं. स्त्री.) छोटा सूप ।
 सुपेदा—(हिं. पुं.) देखें 'सफेदा' ।
 सुप्त—(सं. वि.) निद्रित, सोया हुआ, ठिठुरा हुआ, मरा हुआ; -क—(पुं.) निद्रा, नींद; -घातक—(वि.) निद्रित अवस्था में वध करनेवाला; -च्युत—(वि.) जिसकी नींद खुल गई हो; -ज्ञान—(पुं.) स्वप्न, सपना; -ता—(स्त्री.); -स्व—(पुं.) निद्रा, नींद; -प्रबुद्ध—(वि.) जो सोकर उठा हो; -वाक्य—(पुं.) निद्रा की अवस्था में कहे हुए शब्द; -स्थ—(वि.) सोया हुआ ।
 सुप्तांग—(सं. पुं.) चेष्टाशून्य या सुन्न अंग ।
 सुप्तांगता—(सं. स्त्री.) निश्चेष्टता ।
 सुप्ति—(सं. स्त्री.) निद्रा, नींद, उँधई ।
 सुप्रकाश—(सं. वि.) उत्तम प्रकाशयुक्त ।
 सुप्रगुप्त—(सं. वि.) अच्छी तरह छिपा हुआ ।
 सुप्रजा—(सं. वि.) अधिक या अच्छी संतानोंवाला ।
 सुप्रजात—(सं. वि.) जिसके बहुत से बाल-वच्चे हों ।
 सुप्रज्ञ—(सं. वि.) बहुत बुद्धिमान् ।
 सुप्रतिज्ञ—(सं. वि.) जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे ।
 सुप्रतिज्ञा—(सं. स्त्री.) दृढ़ प्रतिज्ञा ।
 सुप्रतिष्ठ—(सं. वि.) जिसका सब लोग आदर-सम्मान करते हों, बहुत प्रसिद्ध ।
 सुप्रतिष्ठा—(सं. स्त्री.) प्रसिद्धि, सुनाम, स्कन्द की एक मातृका का नाम, एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में पाँच वर्ण होते हैं ।
 सुप्रतिष्ठित—(सं. वि.) उत्तम रूप से प्रतिष्ठित; (पुं.) एक देवपुत्र का नाम ।
 सुप्रतीक—(सं. पुं.) शिव, कामदेव; (वि.) सज्जन, सुरूप, सुंदर ।
 सुप्रबुद्ध—(सं. वि.) जिसको अच्छा बोध या ज्ञान हो ।
 सुप्रभ—(सं. वि.) सुंदर ।
 सुप्रभा—(सं. स्त्री.) अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक, स्कन्द की एक मातृका का नाम, सुंदर प्रकाश, सात सरस्वतियों में से एक ।
 सुप्रभात—(सं. पुं.) मंगलसूचक प्रातःकाल ।
 सुप्रभाव—(सं. पुं.) अच्छा प्रभाव शक्तिमत्ता ।
 सुप्रयुक्त—(सं. वि.) अच्छी तरह या शुद्ध रूप से प्रयोग किया हुआ ।

सुप्रलंभ—(सं. वि.) सहज में मिलने योग्य ।
 सुप्रलाप—(सं. पुं.) सुंदर मापण ।
 सुप्रसन्न—(सं. पुं.) कुवेर; (वि.) अत्यन्त निर्मल, बहुत प्रसन्न ।
 सुप्रसाद—(सं. पुं.) शिव, विष्णु, एक असुर का नाम ।
 सुप्रसिद्ध—(सं. वि.) अति विख्यात ।
 सुप्राप्य—(सं. वि.) सुगमता से प्राप्त होने योग्य ।
 सुप्रिय—(सं. वि.) बहुत प्यारा; (पुं.) एक गन्धर्व का नाम ।
 सुप्रिया—(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम, सोलह मात्राओं का एक वृत्त जिसमें अन्तिम वर्ण के अतिरिक्त सब वर्ण लघु होते हैं, एक प्रकार की चौपाई ।
 सुप्रीड़—(सं. वि.) अति वृद्ध, बहुत बड़ा ।
 सुफल—(सं. पुं.) कैय, वादाम, अतार, मृग, सुंदर फल, अच्छा परिणाम; (वि.) सुंदर फलवाला, कृतार्थ, सफल ।
 सुफला—(सं. स्त्री.) इन्द्रवास्ती, कुम्हड़ा, मुनक्का; (वि. स्त्री.) सुंदर फल देनेवाली ।
 सुफेद—(हि. वि.) देखें 'सफेद' ।
 सुवर्धन—(सं. वि.) अच्छी तरह बँधा हुआ ।
 सुवर्धु—(सं. पुं.) अच्छा मित्र, अच्छा भाई ।
 सुवडी—(हि. स्त्री.) टलही चाँदी ।
 सुवरनी—(हि. स्त्री.) छड़ी ।
 सुवल—(सं. पुं.) गान्धार का एक राजा जो शकुनि का पिता और धृतराष्ट्र का ससुर था ।
 सुवह—(अ. पुं.) प्रातः, भोर, सवेरा; (मुहा.)—शाम करना—डाल-मटोल करना ।
 सुवहृश्रुत—(सं. वि.) सर्वज्ञास्त्रज्ञ ।
 सुवाल—(सं. पुं.) अच्छा बालक ।
 सुवास—(हि. स्त्री.) मुगन्व, सुंदर निवास-स्थान, एक प्रकार का धान ।
 सुवासना—(हि. स्त्री.) सुगन्व; (हि. क्रि. सं.) सुगन्धित करना, महकाना ।
 सुवासित—(हि. वि.) देखें 'मुवासित' ।
 सुवाह—(सं. वि.) दृढ़ या सुंदर बाह-वाला; (पुं.) धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम, एक दानव का नाम, जयन्त का एक पुत्र;—ज्ञान—(पुं.) श्रीरामचन्द्र ।
 सुविस्ता, सुवीता—(हि. पुं.) देखें 'सुमीता' ।
 सुवृष्ट—(हि. वि.) सावधान, बुद्धिमान् ।
 सुबुद्धि—(सं. वि.) बुद्धिमान्, उत्तम बुद्धिमान्; (स्त्री.) उत्तम बुद्धि ।
 सुवृत्त—(अ. पुं.) प्रमाण, भवत ।
 सुवोष—(सं. वि.) जो नरक में उन्नत में आ जाय, सरस; (पुं.) उत्तम ज्ञान ।

सुवोषिनी—(सं. स्त्री.) सद् ज्ञानवाली ।
 सुव्रह्मण्य—(सं. पुं.) शिव, विष्णु, कार्तिकेय, दक्षिण भारत का एक प्राचीन प्रान्त ।
 सुभंग—(सं. पुं.) नारियल का वृक्ष ।
 सुभ—(हि. वि.) देखें 'शुभ' ।
 सुभक्ष्य—(सं. पुं.) उत्तम भोजन-द्रव्य ।
 सुभग—(सं. वि.) सुंदर, मनोहर, भाग्यवान्, आनन्ददायक, प्रिय, सुखद; (पुं.) गन्धक, सोहागा, चम्पा, गिव, अशोक;—ता—(स्त्री.) सौन्दर्य, प्रेम ।
 सुभगा—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जो पति को प्यारी हो, हल्दी, तुलसी, कस्तूरी, बेला, मोतिया, चमेली, स्कन्द की एक मातृका का नाम, पाँच वर्ष की कुमारी, एक प्रकार की रागिनी ।
 सुभग—(हि. वि.) देखें 'सुभग' ।
 सुभट—(सं. पुं.) वीर योद्धा, अच्छा सैनिक ।
 सुभट्ट—(सं. पुं.) बहुत बड़ा पण्डित ।
 सुभद्र—(सं. पुं.) मंगल, कल्याण, सौभाग्य, श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम, विष्णु, सनत्कुमार; (वि.) भाग्यवान्, सज्जन, मांगलिक;—क—(पुं.) बेल का वृक्ष ।
 सुभद्रा—(सं. स्त्री.) दुर्गा का एक रूप, संगीत में एक श्रुति का नाम, श्रीकृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी, अनिरुद्ध की पत्नी का नाम ।
 सुभद्रिका—(सं. स्त्री.) श्रीकृष्ण की छोटी बहन, एक वर्ण-वृत्त का नाम ।
 सुभद्रेश—(सं. पुं.) अर्जुन ।
 सुभर—(सं. वि.) सम्पूर्ण, प्रचुर ।
 सुभय—(सं. पुं.) साठ संवत्सरों में से अन्तिम संवत्सर का नाम ।
 सुभांजन—(सं. पुं.) सहिजन का वृक्ष ।
 सुभा—(सं. स्त्री.) गोला, पर-नारी, हँस ।
 सुभाड, सुभाड—(हि. पुं.) देखें 'स्वभाव'; (अव्य.) स्वभावतः सहज भाव में ।
 सुभाग—(हि. पुं.) सौभाग्य, भाग्य; (सं. वि.) भाग्यवान् ।
 सुभागी—(हि. वि.) भाग्यवान्, भाग्यशाली ।
 सुभागीन—(हि. वि.) सुभग, भाग्यवान् ।
 सुभाग्य—(हि. वि.) बहुत भाग्यवान् ।
 सुभाना—(हि. क्रि. अ.) सोनित होना ।
 सुभानु—(सं. पुं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम ।
 सुभाय—(हि. पुं.) स्वभाय ।
 सुभायक—(हि. वि.) स्वभायिक ।
 सुभान—(हि. पुं.) सहाय ।
 सुभायक—(सं. पुं.) मदर भायक ।
 सुभायित—(सं. वि.) अत्यधिक मदर हुआ; (पुं.) सुभाय, मदर उन्नत ।

सुभायी—(सं. वि.) मधुर श्रोतनेवाला ।
 सुभिक्ष—(सं. पुं.) ऐना समय जब अन्न प्रचुर हो, सुकाल ।
 सुभियज—(सं. वि.) अच्छी चिन्तना करनेवाला ।
 सुभी—(हि. वि. स्त्री.) शून्यकारिणी ।
 सुभीत—(सं. वि.) बहुत डरा हुआ ।
 सुभीता—(हि. पुं.) सुगमता, सुयोग्य, आसानी, सुविधा ।
 सुभीन—(सं. वि.) बहुत डरावना ।
 सुभीमा—(सं. स्त्री.) श्रीकृष्ण की एक पत्नी का नाम ।
 सुभीरक—(सं. पुं.) पञ्जाब का वृक्ष ।
 सुभीर—(सं. वि.) बहुत डरावना ।
 सुभूरत—(सं. वि.) अच्छी तरह रखा हुआ ।
 सुभुज—(सं. वि.) सुंदर भुजाओंवाला ।
 सुभूति—(सं. स्त्री.) उन्नति ।
 सुभूमि—(सं. स्त्री.) अच्छी भूमि ।
 सुभूषण—(सं. पुं.) उत्तम अलंकार ।
 सुभूषित—(सं. वि.) भली भाँति अलंकृत ।
 सुभूषण—(सं. पुं.) उन्नत औपथ ।
 सुभोग्य—(सं. वि.) अच्छी तरह मंगलने योग्य ।
 सुभोज—(सं. पुं.) उत्तम भोजन ।
 सुभीटी—(हि. स्त्री.) पोना ।
 सुभ्र—(हि. वि.) देखें 'शुभ्र' ।
 सुभ्र, सुभ्रू—(सं. स्त्री.) उत्तम भ्रू, मुर गोंह, स्कन्द की एक मानुष ली नाम ।
 सुभंगल—(सं. वि.) शुभ, लम्बापकारी ।
 सुभंगला—(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम, स्कन्द की एक मानुष ली का नाम ।
 सुभंगली—(हि. स्त्री.) विद्या में लक्ष्मणरी पूजा के बाद सुरोन्नत को दी जानेवाली दक्षिणा ।
 सुभंग—(सं. पुं.) राजा उग्रथ का मन्त्री और भार्गव ।
 सुभंगित—(सं. वि.) जिसे अच्छी तरह मनषा दी गई हो ।
 सुभंगी—(सं. पुं.) सुगन्ध मन्त्री ।
 सुभंग—(सं. वि.) मद्र, मुस्त; (पुं.) एक पुत्र विन्ता नरका की लक्ष्मी है ।
 सुभ—(सं. पुं.) पुत्र, नरपति, अथवा ।
 सुभत—(सं. वि.) भयानक, बुद्धिमान्; (हि. स्त्री.) सुभति ।
 सुभति—(सं. पुं.) भय के एक पुत्र का नाम; (सं. वि.) सुभति, अथवा सुभति, मणि, द्रव्य, भावना, ईश, देव-पति; (वि.) अथवा बुद्धिमान् ।
 सुभद—(सं. वि.) सुभयक, सुभयक; (पुं.) सुभयक की भेदा का पुत्र यावर भेदायी ।

सुमदुर्भ—(हि. वि.) स्थूलकाय, मोटा ।
 सुमधुर—(सं. वि.) रसयुक्त, बहुत मीठा ।
 सुमध्यमा, सुमध्या—(सं. स्त्री.) सुंदर कमरवाली ।
 सुमन—(सं.पुं.) गेहूँ, धतूरा, देवता, पण्डित, एक दानव का नाम, पुष्प, फूल; (वि.) सुंदर, मनोहर; —चाप—(पुं.) कामदेव ।
 सुमनस्क—(सं. वि.) प्रसन्न, सुखी ।
 सुमना—(सं. स्त्री.) चमेली, सेवती, कैकेयी ।
 सुमनामुख—(सं. वि.) सुंदर मुखवाला ।
 सुमनित—(हि. वि.) सुंदर रत्न जड़ा हुआ ।
 सुमनोहर—(सं. वि.) बहुत सुंदर ।
 सुमनौकस—(सं. पुं.) स्वर्ग ।
 सुमरन—(हि. स्त्री.) देखें 'सुमरनी' ।
 सुमरना—(हि. क्रि. स.) स्मरण करना, ध्यान करना, बारंबार नाम लेना, ईश्वर का नाम जपना ।
 सुमरनी—(हि. स्त्री.) नाम जपने की छोटी माला जिसमें सत्ताईस दाने होते हैं ।
 सुमरीचिका—(सं. स्त्री.) सांख्य के अनुसार पाँच बाह्य तुष्टियों में से एक ।
 सुमहत्—(सं. व.) बहुत, अनेक ।
 सुमहाबल—(सं. वि.) बहुत बलवान् ।
 सुमहाबाहु—(सं. वि.) जिसकी भुजा बहुत लंबी हो ।
 सुमहारथ—(सं. पुं.) बहुत वीर पुरुष ।
 सुमाता—(सं. स्त्री.) सुंदर माता, उत्तम माता ।
 सुमानिका—(सं. स्त्री.) सात अक्षरों का एक वृत्त ।
 सुमानस—(सं. वि.) सहृदय, अच्छे मन का ।
 सुमार्ग—(सं. पुं.) उत्तम मार्ग ।
 सुमालिनी—(सं. स्त्री.) एक वर्षवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ६ अक्षर होते हैं ।
 सुमाली—(सं. पुं.) एक राक्षस जिसकी कन्या कैकसी के गर्भ से रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण उत्पन्न हुए थे ।
 सुमित्र—(सं. पुं.) अच्छा मित्र, कृष्ण के एक पुत्र का नाम, अभिमन्यु के सारथी का नाम ।
 सुमित्रा—(सं. स्त्री.) राजा दशरथ की एक पत्नी जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थीं; —नंदन—(पुं.) लक्ष्मण और शत्रुघ्न ।
 सुमिरन—(हि. पुं.) देखें 'स्मरण' ।
 सुमिरना—(हि. क्रि. स.) नाम जपना ।
 सुमिरनी—(हि. स्त्री.) देखें 'सुमरनी' ।
 सुमुख—(सं. पुं.) गणेश, गरुड़ के पुत्र का नाम, शिव, किन्नरों का राजा, पण्डित, आचार्य, सफेद तुलसी, एक प्रकार का जलपक्षी, सुंदर मुख; (वि.) सुंदर मुखवाला, मनोहर, प्रसन्न, कृपालु ।

सुमुखा—(सं. स्त्री.) सुंदर स्त्री ।
 सुमुखी—(सं. स्त्री.) सुंदर मुखवाली स्त्री, एक अप्सरा का नाम, संगीत में एक प्रकार की मूर्च्छना, एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर होते हैं, दर्पण; (वि. स्त्री.) सुंदर मुखवाली ।
 सुमुहूर्त—(सं. पुं.) शुभ समय ।
 सुमूलक—(सं. पुं.) गाजर ।
 सुमूषित—(सं. वि.) बंचित, ठगा हुआ ।
 सुमृग—(सं. पुं.) वह वन जहाँ बहुत से जंगली पशु हों ।
 सुमृति—(हि. स्त्री.) देखें 'स्मृति' ।
 सुमृत्यु—(सं. स्त्री.) अच्छी मृत्यु ।
 सुमेध—(सं. वि.) उत्तम बुद्धिवाला, बुद्धिमान् ।
 सुमेधा—(सं. स्त्री.) मालकँगनी ।
 सुमेरु—(हि. पुं.) देखें 'सुमेरु' ।
 सुमेरु—(सं. पुं.) पुराण के अनुसार पृथ्वी का मध्यस्थ पर्वत, जपमाला के बीच का दाना, शिव, उत्तरी ध्रुव, एक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में सत्रह मात्राएँ होती हैं; (वि.) अति सुंदर, बहुत ऊँचा; —वृत्त—(पुं.) वह वृत्त जो उत्तरी ध्रुव से २३½ अक्षांश दक्षिण माना गया है; —समुद्र—(पुं.) उत्तर महासागर ।
 सुम्मा—(हि. पुं.) बकरा ।
 सुम्मी—(हि. स्त्री.) सुनारों का छिद्र करने का एक उपकरण ।
 सुम्हार—(हि. पुं.) एक प्रकार का घान ।
 सुयज्ञ—(सं. पुं.) अच्छा यज्ञ ।
 सुयत—(सं. वि.) जितेन्द्रिय ।
 सुयश—(सं. वि.) अति यशस्वी, उत्तम यशवाला; (पुं.) सुकीर्ति, अच्छा यश ।
 सुयशा—(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम, परीक्षित की एक पत्नी का नाम ।
 सुयुक्त—(सं. वि.) अच्छी तरह मिला हुआ, संयुक्त ।
 सुयुक्ति—(सं. स्त्री.) अच्छी सलाह ।
 सुयुद्ध—(सं. पुं.) न्यायसंगत युद्ध, धर्मयुद्ध ।
 सुयोग—(सं. पुं.) संयोग, अच्छा अवसर ।
 सुयोग्य—(सं. वि.) बहुत योग्य ।
 सुयोधन—(सं. पुं.) घृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ।
 सुरंग—(सं. पुं.) अच्छा रंग, शिगरफ, नारंगी; (वि.) अच्छे रंग का, सुंदर; (हि. स्त्री.) मूमि या पहाड़ खोदकर बनाया हुआ मार्ग, वह छिद्र जो चोर भीत खोदकर बनाते हैं, संध ।
 सुरंगधातु—(सं. पुं.) गेरु ।
 सुरंगी—(सं. स्त्री.) कौआठोठी ।

सुर—(सं. पुं.) देवता, सूर्य, पण्डित, ध्वनि, ऋषि, मुनि; (हि. पुं.) स्वर, आवाज; (मुहा.) सुर में सुर मिलाना—हाँ में हाँ करना, शुश्रूषा करना ।
 सुरक—(हि. पुं.) नाक पर माले की आकृति का तिलक; (हि. स्त्री.) सुरकने की क्रिया या भाव ।
 सुरकना—(हि. क्रि. स.) साँस के साथ धीरे-धीरे नाक से पानी आदि खींचना, सुड़कना ।
 सुरकरी—(सं. पुं.) देवताओं का हाथी, दिग्गज ।
 सुरकानन—(सं. पुं.) देवताओं के विहार करने का वन ।
 सुरकामिनी—(सं. स्त्री.) अप्सरा ।
 सुरकामुक—(सं. पुं.) इन्द्रधनुष ।
 सुरकार्य—(सं. पुं.) देवताओं के उद्देश्य से किया जानेवाला काम ।
 सुरकाष्ठ—(सं. पुं.) देवदारु ।
 सुरकुल—(सं. पुं.) देवताओं का निवास स्थान ।
 सुरकृत—(सं. पुं.) विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम; (वि.) देवताओं का किया हुआ ।
 सुरकुदाव—(हि. पुं.) घोखा देने के लिये बोली बदलकर बोलना ।
 सुरकेतु—(सं. पुं.) इन्द्र, इन्द्र की ध्वजा ।
 सुरक्त—(सं. वि.) अति अनुरक्त ।
 सुरक्ष—(सं. पुं.) एक मुनि, एक पर्वत ।
 सुरक्षण—(सं. पुं.) रखवाली ।
 सुरक्षा—(सं. स्त्री.) समुचित रक्षा ।
 सुरक्षित—(सं. वि.) अच्छी तरह रक्षित, संभाल कर रखा हुआ ।
 सुरख—(हि. वि.) लाल ।
 सुरग—(हि. पुं.) स्वर्ग ।
 सुरगज—(हि. पुं.) इन्द्र का हाथी ।
 सुरगण—(सं. पुं.) देवताओं का समूह ।
 सुरगति—(सं. स्त्री.) देवी गति ।
 सुरगर्भ—(सं. पुं.) देव-सन्तान ।
 सुरगाय—(हि. स्त्री.) कामधेनु ।
 सुरगायक(न)—(सं. पुं.) गन्धर्व ।
 सुरगिरि—(सं. पुं.) सुमेरु पर्वत ।
 सुरगुरु—(सं. पुं.) देवताओं के गुरु, वृहस्पति ।
 सुरंगैया—(हि. स्त्री.) कामधेनु ।
 सुरचाप—(सं. पुं.) इन्द्रधनुष ।
 सुरज—(हि. पुं.) देखें 'सूर्य' ।
 सुरजन—(सं. पुं.) देवताओं का समूह; (हि. वि. पुं.) सज्जन, चतुर ।
 सुरजनी—(सं. स्त्री.) चाँदनी रात ।
 सुरज्येष्ठ—(सं. पुं.) देवताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मा ।

सुरझन—(हि. स्त्री.) देखें 'सुलझन' ।
 सुरझना, सुरझाना—(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'सुलझना', 'सुलझाना' ।
 सुरटोप—(हि. स्त्री.) सुर का आलाप ।
 सुरत—(सं.पुं.) कामकेलि, रतिक्रीड़ा, मैथुन ।
 सुरत—(हि. स्त्री.) ध्यान, याद; (मुहा.)
 -विसारना—मूल जाना ।
 सुरतरंगिणी—(सं. स्त्री.) गंगा ।
 सुरतरु—(सं. पुं.) देवतरु, कल्पवृक्ष ।
 सुरता—(सं. स्त्री.) देवता का (भाव, धर्म या कार्य), देवसमूह, संभोग का आनन्द, एक अप्सरा का नाम; (हि. पुं.) हल में लगी हुई बाँस की नली जिसमें अन्न के दाने डालकर बोये जाते हैं; (हि. स्त्री.) चिन्ता, ध्यान, चेत, सुघ ।
 सुरतात—(सं.पुं.) देवताओं के पिता, कश्यप ।
 सुरतान—(हि. स्त्री.) स्वर का आलाप ।
 सुरति—(सं. स्त्री.) भोग-विलास, विहार, संभोग; (हि. स्त्री.) स्मरण, सुघ, चेत, देखें 'सुरत'; -गोपना—(सं. स्त्री.) वह नायिका जो रतिक्रीड़ा करके आई हो और अपनी सखियों से छिपाती हो; -वंत—(हि. वि.) कामातुर; -विचित्रा—(स्त्री.) वह मध्या नायिका जिसकी रति-क्रिया विचित्र हो ।
 सुरती—(हि. स्त्री.) तमाकू के पत्तों का चूरा जो पान के साथ खाया जाता है ।
 सुरत्न—(सं. पुं.) सोना, मानिक; (वि.) उत्तम रत्नों से युक्त, सर्वश्रेष्ठ ।
 सुरत्राण, सुरत्राता—(सं. पुं.) विष्णु, श्रीकृष्ण, इन्द्र ।
 सुरथ—(सं. पुं.) एक चन्द्रवंशीय राजा जिन्होंने पृथ्वी पर पहले-पहल दुर्गा की पूजा की थी और देवी के वरदान से सावाणि नामक मनु हुए थे, एक पर्वत का नाम ।
 सुरदार—(हि. वि.) जिसके गले का स्वर लययुक्त हो, सुरीला ।
 सुरदारु—(सं. पुं.) देवदार का वृक्ष ।
 सुरदीर्घिका—(सं. स्त्री.) आकाशगंगा, मन्दाकिनी ।
 सुरदुम्भि—(सं. स्त्री.) देवताओं का नगाड़ा ।
 सुरदेवी—(सं. स्त्री.) योगमाया जिसने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था ।
 सुरदेश—(सं. पुं.) देवलोक, स्वर्ग ।
 सुरद्रुम—(सं. पुं.) कल्पवृक्ष ।
 सुरद्विप—(सं. पुं.) ऐरावत हाथी ।
 सुरद्विप—(सं. पुं.) असुर, राक्षस ।
 सुरधाम—(सं. पुं.) देवलोक, स्वर्ग; (मुहा.)
 -सिधारना—मर जाना ।

सुरधुनी—(हि. स्त्री.) मन्दाकिनी, गंगा ।
 सुरधनु—(सं. स्त्री.) कामवेनु ।
 सुरनगर—(सं. पुं.) स्वर्ग ।
 सुरनदी—(सं. स्त्री.) आकाशगंगा, गंगा ।
 सुरनाथ, सुरनाथक—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 सुरनारी—(सं. स्त्री.) देवांगना ।
 सुरनाह—(हि. पुं.) देवराज, इन्द्र ।
 सुरनिम्नगा—(सं. स्त्री.) गंगा ।
 सुरनिलय—(सं. पुं.) सुमेरु पर्वत ।
 सुरपति—(सं. पुं.) देवराज इन्द्र ।
 सुरपतिगुरु—(सं. पुं.) वृहस्पति ।
 सुरपतिचाप—(सं. पुं.) इन्द्रवनुष ।
 सुरपतितनय—(सं. पुं.) अर्जुन ।
 सुरपथ—(सं. पुं.) आकाश ।
 सुरपर्वत—(सं. पुं.) सुमेरु पर्वत ।
 सुरपाल—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 सुरपुर—(सं. पुं.) अमरावती ।
 सुरप्रिय—(सं. पुं.) अगस्त्य, इन्द्र, वृहस्पति ।
 सुरप्रिया—(सं. स्त्री.) जाती पुष्प, चमेली ।
 सुरफाँक ताल—(हि. पुं.) मृदंग का एक ताल ।
 सुरबुली—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पौधा जिसकी छाल से रंग बनता है ।
 सुरबृच्छ—(हि. पुं.) देखें 'सुरवृक्ष' ।
 सुरबल—(हि. स्त्री.) कल्प-लता ।
 सुरभंग—(हि. पुं.) स्वर का विपर्यास जो प्रेम, आनन्द, भय आदि के कारण उत्पन्न होता है ।
 सुरभवन—(सं. पुं.) देवताओं का निवास-स्थान, मन्दिर, सुरपुरी, अमरावती ।
 सुरभान—(हि. पुं.) इन्द्र, सूर्य ।
 सुरभि—(सं. पुं.) सोना, सुगन्ध, चम्पा, जायफल, वसन्त ऋतु, कदम्ब वृक्ष, मौलसिरी, चैत का महीना; (स्त्री.) सुगंध, सुवास, सलई, गाय, पृथ्वी, तुलसी, सुरा, कार्तिकेय की एक मातृका का नाम; (वि.) सुगंधित, सुंदर, श्रेष्ठ, प्रसिद्ध; -गंध—(पुं.) तेजपत्ता; -गंधा—(स्त्री.) चमेली; -च्छद—(पुं.) कपित्थ, कैथ; -पुत्र—(पुं.) साँड़, बैल; -त्राण—(पुं.) कामदेव; -मास—(पुं.) चैत का महीना; -मुख—(पुं.) वसंत ऋतु का आरम्भ; -बलकल—(पुं.) दारचीनी; -समय—(पुं.) वसन्त ।
 सुरभित—(सं. पुं.) सुगंधित, प्रसिद्ध ।
 सुरभिमान्—(सं. वि.) सुगन्धयुक्त ।
 सुरभी—(सं. स्त्री.) सुगन्ध, केवाच, ह्रद्रजटा, चन्दन, गाय; -गोत्र—(पुं.) बैल; -पुर—(पुं.) गोलोक ।

सुरभूप—(सं. पुं.) इन्द्र, विष्णु ।
 सुरभोग—(सं. पुं.) अमृत ।
 सुरभौन—(हि. पुं.) देखें 'सुरभवन' ।
 सुरमंडल—(सं. पुं.) देवताओं का मण्डल, एक प्रकार का वाजा ।
 सुरमणि—(सं. पुं.) चिन्तामणि ।
 सुरमणौय—(सं. वि.) अति सुंदर ।
 सुरमई—(हि. वि.) सुरमे के रंग का, नीलाभ ।
 सुरसौर—(हि. पुं.) देवताओं में श्रेष्ठ, विष्णु ।
 सुरस्य—(सं. वि.) बहुत सुंदर ।
 सुरखान—(सं. पुं.) देवताओं का रथ ।
 सुरयुवती—(सं. स्त्री.) अप्सरा ।
 सुरराज—(सं. पुं.) सुरपति, इन्द्र ।
 सुरराजगुरु—(सं. पुं.) वृहस्पति ।
 सुरराया—(हि. पुं.) इन्द्र ।
 सुररिपु—(सं. पुं.) देवताओं के शत्रु, राक्षस ।
 सुरख—(हि. पुं.) कल्पवृक्ष ।
 सुरलासिका—(सं. स्त्री.) वंसी की ध्वनि, वाँसुरी ।
 सुरली—(हि. स्त्री.) सुंदर क्रीड़ा ।
 सुरलोक—(सं. पुं.) स्वर्ग; -सुंदरी—(स्त्री.) अप्सरा ।
 सुरवधू—(सं. स्त्री.) देवताओं की पत्नी ।
 सुरवर—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 सुरवर्त्म—(सं. पुं.) आकाश ।
 सुरवल्ली—(सं. स्त्री.) तुलसी ।
 सुरवस—(हि. पुं.) जुलाहों की पतली छड़ी जिसका व्यवहार वे ताना तैयार करने में करते हैं ।
 सुरवा—(हि. पुं.) देखें 'सुवा' ।
 सुरवाणी—(सं. स्त्री.) संस्कृत भाषा ।
 सुरवास—(सं. पुं.) देवस्थान, स्वर्ग ।
 सुरवाहिनी—(सं. स्त्री.) गंगा नदी ।
 सुरविटथ—(सं. पुं.) कल्पवृक्ष ।
 सुरवीथी—(सं. स्त्री.) नक्षत्रों का मार्ग ।
 सुरवीर—(सं. पुं.) इन्द्र ।
 सुरवृक्ष—(सं. पुं.) कल्पतरु ।
 सुरवेशम—(सं. पुं.) स्वर्ग ।
 सुरवैरी, सुरशत्रु—(सं. पुं.) देवताओं के शत्रु, असुर ।
 सुरशत्रुहन्—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 सुरशयनी—(सं. स्त्री.) आपाड़ शुक्ला एकादशी ।
 सुरशाखी—(सं. पुं.) कल्पवृक्ष ।
 सुरशिल्पी—(सं. पुं.) विश्वकर्मा ।
 सुरश्रेष्ठ—(सं. पुं.) विष्णु, शिव, इन्द्र, गणेश ।
 सुरस—(सं. वि.) स्वादिष्ट, सुंदर, रसीला ।
 सुरसल—(सं. पुं.) देवताओं के सखा, हर्द ।

सुरसती—(हि. स्त्री.) देखें 'सरस्वती' ।
 सुरसत्तम—(सं. पुं.) देवताओं में श्रेष्ठ, विष्णु ।
 सुरसदन, सुरसद्व—(सं. पुं.) अमरपुरी, स्वर्ग ।
 सुरसर—(सं. पुं.) मानसरोवर; —सुता—(स्त्री.) सरयू नदी ।
 सुरसरि, सुरसरिता—(सं. स्त्री.) गंगा नदी, गोदावरी ।
 सुरस्ता—(सं. स्त्री.) तुलसी, सौंफ, ब्राह्मी, सतावर, पुनर्नवा, सर्पगन्धा, जूही, एक प्रकार की रागिनी, एक प्रकार का वृत्त, एक प्रसिद्ध नागमाता जो समुद्र में रहती थी और जिसने हनुमान् को समुद्र पार करते समय रोका था, दुर्गा का एक नाम, एक अप्सरा का नाम ।
 सुरसाई—(हि. पुं.) इन्द्र, शिव ।
 सुरसाल—(हि. पुं.) दानव, असुर, राक्षस ।
 सुरसाहब—(हि. पुं.) देवताओं के स्वामी ।
 सुरसिंधु—(सं. पुं.) गंगा ।
 सुरसुंदर—(सं. वि.) बहुत सुंदर ।
 सुरसुंदरी—(सं. स्त्री.) अप्सरा, दुर्गा, योगिनी विशेष ।
 सुरसुत—(सं. पुं.) देवपुत्र ।
 सुरसुरभी—(सं. स्त्री.) कामधेनु ।
 सुरसुराना—(हि. क्रि. अ.) खुजली होना, कीड़ों का रेंगना ।
 सुरसुराहट, सुरसुरी—(हि. स्त्री.) खुजली, गुदगुदी, अनाज में लगनेवाला लाल रंग का कीड़ा ।
 सुरसेना—(सं. स्त्री.) देवताओं की सेना ।
 सुरसैनी—(हि. स्त्री.) देखें 'सुरशयनी' ।
 सुरस्कंद—(सं. पुं.) एक असुर ।
 सुरस्त्री—(सं. स्त्री.) अप्सरा ।
 सुरस्थान—(सं. पुं.) देवलोक, स्वर्ग ।
 सुरस्वामी—(सं. पुं.) देवताओं के स्वामी इन्द्र ।
 सुरहरा—(हि. वि.) सुरसुर शब्द से युक्त ।
 सुरही—(हि. स्त्री.) सुरभि गाय ।
 सुरांगना—(सं. स्त्री.) देवपत्नी; अप्सरा ।
 सुरा—(सं. स्त्री.) मद्य, जल, पानी ।
 सुराई—(हि. स्त्री.) शूरता, वीरता ।
 सुराकर—(सं. पुं.) नारियल का पेड़ ।
 सुराकार—(सं. पुं.) मद्य बनानेवाला ।
 सुराख—(हि. पुं.) छेद, देखें 'सुराख' ।
 सुराग—(सं. पुं.) सुंदर राग, अत्यंत प्रेम; (हि. पुं.) देखें 'सुराख' ।
 सुरागाय—(हि. स्त्री.) एक प्रकार की जंगली गाय जिसकी पूँछ के बाल का चेंबर वनता है ।

सुरागार, सुरागृह—(सं. पुं.) मद्यगृह ।
 सुराचार्य—(सं. पुं.) बृहस्पति ।
 सुराज—(हि. पुं.) देखें 'स्वराज्य' ।
 सुराजिका—(सं. स्त्री.) छिपकली ।
 सुराजीव—(सं. पुं.) विष्णु ।
 सुराज्य—(सं. पुं.) वह राज्य या शासन जिसमें प्रजा को सुख और शांति मिले ।
 सुराथी—(हि. स्त्री.) वह लकड़ी का डंडा जिससे पीटकर अन्न के दाने अलगाये जाते हैं ।
 सुराधिप, सुराधीश—(सं. पुं.) देवताओं के अधिपति, इन्द्र ।
 सुराध्यक्ष—(सं. पुं.) ब्रह्मा, कृष्ण, शिव ।
 सुरानीक—(सं. पुं.) देवताओं की सेना ।
 सुरापगा—(सं. स्त्री.) गंगा नदी ।
 सुरापान्न—(सं. पुं.) मदिरा रखने या पीने का पात्र ।
 सुरापान—(सं. पुं.) मद्य पीना ।
 सुरामत्त—(सं. वि.) मद्य पीकर उन्मत्त ।
 सुरायुध—(सं. पुं.) देवताओं का अस्त्र ।
 सुरारि—(सं. पुं.) असुर, राक्षस; —हंता—(पुं.) विष्णु ।
 सुरालय—(सं. पुं.) देवताओं का वास-स्थान ।
 सुरावती, सुरावनि—(सं. स्त्री.) कश्यप की पत्नी और देवताओं की माता, पृथ्वी ।
 सुरावास, सुराशय—(सं. पुं.) सुमेरु पर्वत ।
 सुराष्ट्र—(सं. पुं.) एक प्राचीन देश का नाम जो भारत के पश्चिम में था ।
 सुराष्ट्रजा—(सं. स्त्री.) गोपीचन्दन ।
 सुरासार—(सं. पुं.) मद्यसार ।
 सुरासुर—(सं. पुं.) देवता और दानव; —गुरु—(पुं.) शिव, कश्यप ।
 सुराही—(अ. स्त्री.) लंबे तथा सँकरे मुँह का जल-पात्र; —दार, —नुमा—(वि.) सुराही के आकार कथि ।
 सुरी—(सं. स्त्री.) देवपत्नी, देवांगना ।
 सुरीला—(हि. वि.) मधुर स्वरवाला ।
 सुरख—(हि. वि.) सदय, अनुकूल ।
 सुरचि—(सं. स्त्री.) उत्तम रुचि, अत्यन्त प्रसन्नता, राजा उत्तानपाद की एक स्त्री का नाम ; (पुं.) एक गन्धर्वराज का नाम, एक दक्ष का नाम ; (वि.) सुंदर रुचिवाला ।
 सुरचिचर—(सं. वि.) अति मनोहर, उज्वल ।
 सुरज—(सं. वि.) अस्वस्थ, रोगी; (हि. पुं.) सूर्य; —सुखी—(हि. स्त्री.) देखें 'सूर्यमुखी' ।
 सुरवा—(हि. पुं.) देखें 'शोरवा' ।
 सुरूप—(सं. वि.) सुंदर, विद्वान्, बुद्धिमान्; (पुं.) शिव, एक असुर का नाम ।
 सुरूपता—(सं. स्त्री.) सुंदरता ।

सुरूपा—(सं. वि., स्त्री.) सुंदर रूपवाली; (स्त्री.) सेवती, बेला ।
 सुरूहक—(सं. पुं.) खच्चर ।
 सुरुद्र—(सं. पुं.) सुरपति, इन्द्र; —गोप—(पुं.) वीरबहूटी; —चाप—(पुं.) इन्द्र-धनुष; —जित्—(पुं.) इन्द्रजित्, गरुड़; —पूज्य—(पुं.) बृहस्पति; —लोक—(पुं.) इन्द्रलोक; —वज्रा—(स्त्री.) एक वर्णवृत्त का नाम; —वती—(स्त्री.) इन्द्राणी, शची सुरेखा—(सं. स्त्री.) शुभ रेखा ।
 सुरेतर—(सं. पुं.) असुर ।
 सुरेश—(सं. पुं.) इन्द्र, शिव, विष्णु, कृष्ण सुरेशलोक—(सं. पुं.) इन्द्रलोक ।
 सुरेश्वरी—(सं. स्त्री.) दुर्गा, लक्ष्मी ।
 सुरेत—(हि. स्त्री.) रखनी, रखेली, उप-पत्नी; —बाल—(पुं.) सुरेत का पुत्र ।
 सुरैतिन—(हि. स्त्री.) रखनी, रखेली ।
 सुरोचना—(सं. स्त्री.) कार्तिकेय की एक मातृका का नाम ।
 सुरोचि—(हि. वि.) सुंदर, मनोहर ।
 सुरोत्तम—(सं. पुं.) सूर्य, विष्णु ।
 सुरोकस्—(सं. पुं.) सुरालय, स्वर्ग ।
 सुखे—(फा. वि.) लाल ।
 सुखी—(फा. स्त्री.) लाली ।
 सुती—(हि. स्त्री.) सुरती ।
 सुलक्षण—(सं. वि.) शुभ लक्षणों से युक्त, भाग्यवान्; (पुं.) शुभ लक्षण या चिह्न, एक प्रकार का छन्द जिसके प्रत्येक चरण में चौदह मात्राएँ होती हैं ।
 सुलक्षणा—(सं. स्त्री.) पार्वती की एक सखी का नाम; (वि. स्त्री.) शुभ लक्षणों से युक्त ।
 सुलक्षणी—(हि. वि., स्त्री.) अच्छे लक्षणों-वाली स्त्री ।
 सुलगना—(हि. क्रि. अ.) आग पकड़ना, धुएँ के साथ जलना, (चिलम पर रखें हुए तंबाकू का) धुआँ देने लगना, ईर्ष्या से जलना, कुढ़ना ।
 सुलगाना—(हि. क्रि. स.) प्रज्वलित करना, जलाना, दुःखी करना, भड़काना, तंबाकू चढ़ाकर पीने योग्य बनाना ।
 सुलगन—(सं. पुं.) शुभ मूर्त, अच्छी साइट ।
 सुलच्छन—(हि. पुं., वि.) देखें 'सुलक्षण' ।
 सुलच्छनी—(हि. वि.) देखें 'सुलक्षणा' ।
 सुलछ—(हि. वि.) सुंदर ।
 सुलझन—(हि. स्त्री.) सुलझने की क्रिया या भाव ।
 सुलझना—(हि. क्रि. अ.) उलझन दूर होना, गाँठ आदि खुलना, (कोई कार्य, समस्या आदि) हल होना ।

सुलझाना—(हिं. क्रि. स.) उलझन को दूर करना, हल करना ।
 सुलझाव—(हिं. पुं.) सुलझने की क्रिया ।
 सुलटा—(हिं.वि.) जो उलटा न हो, सीधा ।
 सुलतान—(अ.पुं.) सम्राट्, बादशाह, राजा ।
 सुलताना—(अ. स्त्री.) सम्राज्ञी, रानी ।
 सुलताना चंपा—(हिं.पुं.) पुष्पाग नामक वृक्ष ।
 सुलतानी—(अ. वि.) सुलतान का ।
 सुलफ—(हिं. वि.) लचीला, कोमल, मृदु ।
 सुलभ—(सं. वि.) सहज में मिलनेवाला, सुगम, उपयोगी, साधारण; (पुं.) अग्नि-होत्र की अग्नि; -ता—(स्त्री.) सुलभ होने का भाव, सुगमता; -त्व—(पुं.) सुलभता ।
 सुलभा—(सं. स्त्री.) जंगली उड़द, माषपर्णी ।
 सुलभेतर—(सं.वि.) दुर्लभ, कठिन, महंगा ।
 सुलभ्य—(सं. वि.) सहज में मिलनेवाला ।
 सुललित—(सं. वि.) अत्यन्त सुंदर ।
 सुलह—(अ. स्त्री.) मेल, मेल-जोल, वैर का मिटना, आपसी समझौता ।
 सुलाखना—(हिं. क्रि. स.) सोने-चाँदी को तपाकर परखना ।
 सुलाना—(हिं. क्रि. स.) सोने में प्रवृत्त करना, लिटाना ।
 सुललित—(सं.वि.) अच्छी तरह लिखा हुआ ।
 सुलेख—(सं. पुं.) सुंदर लिखावट ।
 सुलेखक—(सं. पुं.) अच्छा लेख या निबन्ध लिखनेवाला, सुंदर अक्षर लिखनेवाला ।
 सुलोक—(सं. पुं.) स्वर्ग ।
 सुलोचन—(सं. वि.) सुंदर आँखोंवाला; (पुं.) चकोर, रविमणी के पिता का नाम, हरिण, वृतराष्ट्र का एक पुत्र ।
 सुलोचना—(सं. स्त्री.) मेघनाद की पत्नी का नाम; (वि.स्त्री.) सुंदर आँखोंवाली ।
 सुलोचनी—(हिं.वि.,स्त्री.) सुंदर नेत्रोंवाली ।
 सुलोम—(सं. वि.) जिसके रोयें सुंदर हों ।
 सुलोह—(सं. पुं.) एक प्रकार का उत्तम लोहा ।
 सुलोहित—(सं. वि.) गहरे लाल रंग का ।
 सुलोहिता—(सं. स्त्री.) अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक ।
 वक्ता—(सं. पुं.) अच्छा भाषण देनेवाला, शिव ।
 सुवचन—(सं. वि.) सुंदर मुखवाला ।
 सुवक्ता—(सं. वि.) जिसकी छाती सुंदर और चौड़ी हो ।
 सुवचन—(सं. वि.) सुवक्ता, मीठा बोलने-वाला; (पुं.) मधुर वचन ।
 सुवच—(सं. पुं.) इन्द्र का एक नाम ।
 सुवटा—(हिं. पुं.) देखें 'सुअटा', तोता ।
 सुवदन—(सं. वि.) सुंदर मुखवाला ।

सुवदना—(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में बीस अक्षर होते हैं; (वि. स्त्री.) सुसुखी ।
 सुवन—(सं. पुं.) सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा ।
 सुवना—(हिं. पुं.) सुग्गा ।
 सुवचल—(सं. पुं.) काला नमक ।
 सुवर्ग—(सं. पुं.) बहुमूल्य धातु विशेष, सोना, कांचन; (वि.) सोने का वना हुआ; -कमल—(पुं.) लाल कमल; -करनी—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की जड़ी; -कर्ता—(पुं.) सोनार; -कार—(पुं.) सोनार; -गिरि—(पुं.) राजगृह के एक पर्वत का नाम; -तिलका—(स्त्री.) ज्योतिष्मती लता; -दुग्धी—(स्त्री.) भटकटैया; -पक्ष—(पुं.) गरुड़; -पद्म—(पुं.) लाल कमल; -फला—(स्त्री.) चंपा, केला; -माक्षिक—(पुं.) सोना-मक्खी; -मित्र—(पुं.) सुहागा; -रेखा—(स्त्री.) रांची के पहाड़ों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरनेवाली एक नदी का नाम; -वर्ण—(पुं.) विष्णु; -वर्णा—(स्त्री.) हल्दी; -सूत्र—(पुं.) सोने की सिकड़ी, सोने का तार ।
 सुवर्णा—(सं. स्त्री.) अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक ।
 सुवर्णाकार—(सं. पुं.) सोने का आकार या खान ।
 सुवर्तुल—(सं. वि.) पूर्णतः गोल ।
 सुवर्मा—(सं. पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; (वि.) उत्तम कवच से युक्त ।
 सुवर्ष—(सं. पुं.) घृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम, उत्तम वर्ष ।
 सुवसन—(सं. पुं.) उत्तम वस्त्र ।
 सुवा—(हिं. पुं.) सुग्गा ।
 सुवाक्य—(सं. वि.) मधुरभाषी; (पुं.) मीठे वचन ।
 सुवार्ता—(सं. स्त्री.) कृष्ण की एक स्त्री का नाम, उत्तम वार्ता ।
 सुवास—(सं. पुं.) अच्छी गन्ध, सुंदर घर ।
 सुवासक—(सं. पुं.) तरबूज ।
 सुवासिका—(सं. वि., स्त्री.) सुगन्ध या खुशबू देनेवाली ।
 सुवासित—(सं. वि.) सुगन्धयुक्त, खुशबू-दार ।
 सुवासिनी—(सं. स्त्री.) युवावस्था में भी पिता के घर रहनेवाली स्त्री, सधवा स्त्री ।
 सुविक्रम—(सं. वि.) अत्यन्त पराक्रमी ।
 सुविक्रांत—(सं. वि.) बहुत पराक्रमी; (पुं.) शूर-वीर ।
 सुविकल—(सं. वि.) अत्यन्त व्यग्र ।

सुविख्यात—(सं. वि.) बहुत प्रसिद्ध ।
 सुविचक्षण—(सं. वि.) बहुत बुद्धिमान् ।
 सुविचार—(सं. पुं.) उत्तम विचार, सुंदर न्याय, कृष्ण के एक पुत्र का नाम ।
 सुविज्ञ—(सं. वि.) अतिशय चतुर ।
 सुविज्ञेय—(सं. वि.) सहज में जाननेयोग्य ।
 सुवितत—(सं. वि.) अच्छी तरह फैला हुआ, सुप्रसिद्ध ।
 सुवित्त—(सं. पुं.) असीम धन ।
 सुविदग्ध—(सं. वि.) बहुत चतुर ।
 सुविदित—(सं. वि.) अच्छी तरह जाना हुआ, सुप्रसिद्ध ।
 सुविद्य—(सं. वि.) बड़ा विद्वान् या पंडित ।
 सुविद्या—(सं. स्त्री.) उत्तम विद्या ।
 सुविधा—(हिं. स्त्री.) देखें 'सुमीता' ।
 सुविधान—(सं. पुं.) अच्छा नियम या व्यवस्था ।
 सुविनीत—(सं. वि.) अत्यन्त नम्र ।
 सुविभक्त—(सं. वि.) ठीक तरह बाँटा हुआ ।
 सुविशाला—(सं. स्त्री.) क्रांतिकेय की एक मातृका का नाम ।
 सुवीज—(सं. पुं.) सुंदर बीज, शिव ।
 सुवीर—(सं. पुं.) बड़ा योद्धा ।
 सुवृक्ष—(सं. पुं.) फल-फूलों से लदा हुआ वृक्ष ।
 सुवृत्त—(सं. पुं.), सुवृत्ता—(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में उन्नीस अक्षर होते हैं ।
 सुवृत्ति—(सं. स्त्री.) उत्तम जीविका ।
 सुवेल—(सं. पुं.) समुद्र के किनारे का एक पर्वत जहाँ श्रीरामचन्द्र सेना सहित ठहरे थे; (वि.) बहुत झुका हुआ ।
 सुवेश—(सं. वि.) सुंदर वेशयुक्त, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित ।
 सुवेष—(सं. वि.) देखें 'सुवेश' ।
 सुवैतल—(हिं. वि.) सुंदर, मनोहर ।
 सुवैया—(हिं. पुं.) सोनेवाला ।
 सुवो—(हिं. पुं.) शुक, सुग्गा ।
 सुव्यक्त—(सं. वि.) बहुत स्पष्ट ।
 सुव्यवस्थित—(सं. वि.) जिसकी व्यवस्था अच्छी तरह की गई हो ।
 सुव्याहृत—(सं. वि.) अच्छी तरह कहा हुआ ।
 सुव्रत—(सं. पुं.) एक प्रजापति का नाम, स्कन्द के एक अनुचर का नाम; (वि.) धर्मनिष्ठ, विनीत ।
 सुशक्त—(सं. वि.) सुसाध्य, आसान, सरल ।
 सुशब्द—(सं. वि.) मधुर स्वरपूर्ण ।
 सुशक—(सं. वि.) सुसाध्य, आसान ।
 सुशक्त—(सं. वि.) सक्षम, समर्थ ।

सुशारण्य—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 सुशरीर—(सं. वि.) सुडौल शरीरवाला ।
 सुशल्य—(सं. पुं.) खदिर, खैर ।
 सुशसित—(सं. वि.) अच्छी तरह शासित ।
 सुशिक्षित—(सं. वि.) उत्तम रूप से शिक्षित ।
 सुशिक्ष—(सं. पुं.) अग्नि ।
 सुशिष्ट—(सं. वि.) बहुत शिष्ट या नम्र ।
 सुशीतला—(सं. स्त्री.) खीरा, ककड़ी ।
 सुशील—(सं. वि.) उत्तम स्वभाववाला,
 विनीत, नम्र, सरल, सीधा ।
 सुशीलता—(सं. स्त्री.) नम्रता, विनय ।
 सुशीला—(सं. स्त्री.) राधा की एक अनु-
 चरी का नाम ।
 सुश्रृंग—(सं. वि.) सुंदर सींगोंवाला;
 (पुं.) श्रृंगी ऋषि ।
 सुशोण—(सं. वि.) गाढ़ा लाल ।
 सुशोभन—(सं. वि.) अत्यन्त शोभायुक्त,
 दिव्य ।
 सुशोभित—(सं. वि.) अत्यन्त शोभायमान ।
 सुश्राव्य—(सं. वि.) जो सुनने में अच्छा
 जान पड़े ।
 सुश्री—(सं. वि.) बहुत सुंदर, बहुत धनी ।
 सुश्रुत—(सं. वि.) प्रसिद्ध, अच्छी तरह
 सुना हुआ; (पुं.) आयुर्वेदीय चिकित्सा-
 शास्त्र के एक प्राचीन और प्रसिद्ध
 आचार्य ।
 सुश्रूषा—(हिं. स्त्री.) देखें 'शुश्रूषा' ।
 सुश्लिष्ट—(सं. वि.) अति दृढ़, जुड़ा हुआ,
 श्लेषयुक्त ।
 सुष—(हिं. पुं.) देखें 'सुख' ।
 सुषमा—(सं. स्त्री.) परम शोभा, आकर्षक
 सुंदरता, एक वृत्त का नाम जिसके
 प्रत्येक चरण में दस अक्षर होते हैं ।
 सुषमाशाली—(सं. वि.) जिसमें अधिक
 शोभा हो ।
 सुषिक्त—(सं. वि.) अच्छी तरह सींचा हुआ ।
 सुषिर—(सं. पुं.) वाँस, वेंत, अग्नि, आग,
 वायु से बजनेवाला यन्त्र, छिद्र, छेद, वायु-
 मण्डल, लवंग; (वि.) छिद्रयुक्त ।
 सुषुप्त—(सं. वि.) गहरी नींद में सोया हुआ ।
 सुषुप्ति—(सं. स्त्री.) सुनिद्रा, गहरी नींद,
 वेदान्त के अनुसार अज्ञान, चित्त की
 एक वृत्ति जिसमें जीव को ब्रह्म की प्राप्ति
 होती है, परन्तु उसको उसका ज्ञान
 नहीं होता ।
 सुषुप्ता—(सं. स्त्री.) सोने की इच्छा ।
 सुषुम्ना—(सं. स्त्री.) हठयोग के अनुसार
 शरीर की तीन प्रधान नाड़ियों में से एक
 जो मेरु-दंड के बाह्य भाग में तथा इड़ा और
 पिंगला नाड़ियों के मध्य में अवस्थित है ।

सुपेण—(सं. पुं.) विष्णु, श्रीकृष्ण के एक
 पुत्र का नाम, परीक्षित के एक पुत्र का
 नाम, सुग्रीव का चिकित्सक ।
 सुषोपति—(हिं. स्त्री.) देखें 'सुषुप्ति' ।
 सुष्ट—(सं. वि.) अच्छा, भला ।
 सुष्टुत—(सं. वि.) भली भाँति स्तुत या
 प्रशंसित ।
 सुष्ठ—(हिं. अव्य.) अच्छी तरह; (वि.)
 सुंदर; -ता—(स्त्री.) सुंदरता ।
 सुष्टु—(सं. अव्य.) अत्यन्त, भली भाँति,
 अच्छी तरह; (पुं.) प्रशंसा ।
 सुष्टुता—(सं. स्त्री.) सौभाग्य, मंगल,
 कल्याण, सुंदरता ।
 सुष्म—(सं. पुं.) रज्जु, रस्सी ।
 सुष्मना—(हिं. स्त्री.) देखें 'सुषुम्ना' ।
 सुसंग—(सं. पुं.) उत्तम संगति ।
 सुसंगत—(सं. वि.) अच्छी तरह मिला
 हुआ, बहुत संगत ।
 सुसंगति—(सं. स्त्री.) सत्संग, अच्छी
 संगत, साधु का संग ।
 सुसंगृहीत—(सं. वि.) अच्छी तरह संग्रह
 किया हुआ ।
 सुसंत्रस्त—(सं. वि.) बहुत डरा हुआ ।
 सुसंध—(सं. वि.) प्रतिज्ञा का पालन
 करनेवाला ।
 सुसंषिष्ट—(सं. वि.) अच्छी तरह चूर्ण
 किया हुआ ।
 सुसंपूर्ण—(सं. वि.) अच्छी तरह समाप्त
 किया हुआ ।
 सुसंस्कृत—(सं. वि.) उत्तम संस्कारयुक्त ।
 सुसकना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'सिसकना' ।
 सुसज्जित—(सं. वि.) शोभायमान, अच्छी
 तरह सजाया हुआ ।
 सुसताना—(हिं. क्रि. अ.) सुस्ताना, श्रम
 मिटाना, थकावट दूर करना ।
 सुसती—(हिं. स्त्री.) सुस्ती, थकावट ।
 सुसत्या—(सं. स्त्री.) राजा जनक की पत्नी
 का नाम ।
 सुसमय—(सं. पुं.) सुभिक्ष, सुकाल, अच्छा
 समय ।
 सुसमृद्ध—(सं. वि.) अति समृद्धिशाली ।
 सुसमा—(हिं. स्त्री.) देखें 'सुषमा' ।
 सुसर—(हिं. पुं.) देखें 'ससुर' ।
 सुसरार, सुसरारि—(हिं. स्त्री.) देखें
 'सुसराल' ।
 सुसराल—(सं. स्त्री.) ससुर का घर, ससुराल
 सुसरित्—(हिं. स्त्री.) मन्दाकिनी, गंगा ।
 सुसरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'सुरसरी' ।
 सुसह—(सं. वि.) सहन किया जाने योग्य ।
 सुसा—(हिं. स्त्री.) स्वसा, बहुत ।

सुसाइ(य)दी—(अं. स्त्री.) समा ।
 सुसाध्य—(सं. वि.) जिसका साधन सहज
 में किया जा सके ।
 सुसाना—(हिं. क्रि. अ.) सिसकना ।
 सुसार—(सं. पुं.) लाल खैर का पेड़, नीलम
 मणि ।
 सुसारवान्—(सं. पुं.) स्फटिक, विल्लौर ।
 सुसिकता—(सं. स्त्री.) उत्तम बालू ।
 सुसिक्त—(सं. वि.) अच्छी तरह सींचा
 हुआ ।
 सुसिद्ध—(सं. वि.) पूर्ण रूप से सिद्ध ।
 सुसिद्धि—(सं. स्त्री.) साहित्य में एक प्रकार
 का अलंकार, (यह ऐसे प्रसंग में होता है
 जहाँ एक मनुष्य परिश्रम करता है
 परन्तु इसका फल दूसरा भोगता है ।)
 सुसुकना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'सिसकना' ।
 सुसुड़ी—(हिं. स्त्री.) जौ आदि अन्नों में
 लगनेवाला एक प्रकार का कीड़ा ।
 सुसूक्ष्म—(सं. वि.) अति सूक्ष्म ।
 सुसेन—(हिं. पुं.) देखें 'सुपेण' ।
 सुसेवित—(सं. वि.) उत्तम रूप से पूजित ।
 सुस्त—(फा. वि.) ढीला, मंद, निस्तेज,
 आलसी, कमजोर ।
 सुस्तना(नी)—(सं. स्त्री.) सुंदर स्तन-
 वाली स्त्री, वह स्त्री जो पहली बार
 रजस्वला हुई हो ।
 सुस्ताई—(हिं. स्त्री.) देखें 'सुस्ती' ।
 सुस्ताना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'सुसताना' ।
 सुस्ती—(फा. स्त्री.) ढिलाई, मंदता,
 आलस, कमजोरी ।
 सुस्तैन—(हिं. पुं.) देखें 'स्वस्तयन' ।
 सुस्थ—(सं. वि.) नीरोग, स्वस्थ, सुस्थित,
 भली भाँति स्थित, सुंदर, प्रसन्न, सुखी;
 -चित्त—(वि.) जिसका चित्त प्रसन्न
 हो; -ता—(स्त्री.) आरोग्य, आनन्द,
 प्रसन्नता ।
 सुस्थावती—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का
 नाम ।
 सुस्थित—(सं. वि.) अविचल, दृढ़, स्वस्थ,
 नीरोग, भाग्यवान् ।
 सुस्थिति—(सं. स्त्री.) प्रसन्नता, आनन्द,
 कुशल, क्षेम ।
 सुस्थिर—(सं. वि.) अविचल, दृढ़, स्वस्थ,
 नीरोग ।
 सुस्नात—(सं. वि.) अच्छी तरह स्नान
 किया हुआ ।
 सुस्मित—(सं. वि.) हँसमुख, हँसोड़ ।
 सुस्मिता—(सं. स्त्री.) हँसमुख, स्त्री ।
 सुस्वन—(सं. वि.) मधुर शब्द या ध्वनि-
 युक्त ।

सुस्वप्न—(सं. पुं.) शुभ स्वप्न ।
 सुस्वर—(सं. पुं.) उत्तम स्वर, शंख; (वि.) सुकंठ, सुरीला; -ता—(स्त्री.) सुस्वर होने का भाव या धर्म ।
 सुस्वाद (डु)—(सं. वि.) बहुत स्वादिष्ट, स्वादयुक्त ।
 सुस्त्राप—(सं. पुं.) गहरी नींद ।
 सुहंगम—(हिं. वि.) सहज, सरल ।
 सुहंगा—(हिं. वि.) जो महंगा न हो, सस्ता ।
 सुहटा—(हिं. वि.) सुंदर, सुहावना ।
 सुहनी—(हिं. स्त्री.) देखें 'सोहनी' ।
 सुहवत—(अ. स्त्री.) संग, साथ, मैत्री ।
 सुहवती—(हिं. वि.) सुहवत का ।
 सुहराना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'सहलाना' ।
 सुहव—(हिं. पुं.) एक राग ।
 सुहवी—(हिं. स्त्री.) एक राग का नाम ।
 सुहा—(हिं. पुं.) लाल नामक पक्षी ।
 सुहाग—(हिं. पुं.) स्त्री की सधवा होने की अवस्था, सौभाग्य, वह वस्त्र जो वर या कन्या को विवाह के समय पहनाया जाता है, मांगलिक गीत, प्रणय-चेष्टा ।
 सुहागन—(हिं. स्त्री.) सुहागिन ।
 सुहागा—(हिं. पुं.) गन्धक के सोते से निकलनेवाला एक प्रकार का क्षार ।
 सुहागिन—(हिं. स्त्री.) सधवा स्त्री, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो ।
 सुहागिनि, सुहागिनी—(हिं. स्त्री.) सुहागिन ।
 सुहाता—(हिं. वि.) जो सहा जा सके ।
 सुहाना—(हिं. क्रि. अ.) शोभा देना, अच्छा लगाना, भला मालूम होना; (वि.) सुहावना ।
 सुहाया—(हिं. वि.) देखें 'सुहावना' ।
 सुहारी—(हिं. स्त्री.) सादी पूरी जिसमें पीठी आदि न भरी हो ।
 सुहाल—(हिं. पुं.) मँदे का बना हुआ एक प्रकार का नमकीन पकवान ।
 सुहाव—(हिं. वि.) सुंदर, सुहावना ।
 सुहावता—(हिं. वि.) सुहावना, भला ।
 सुहावन, सुहावना—(हिं. वि.) जो देखने में भला मालूम हो, सुंदर, रमणीक; -पन—(पुं.) सुंदरता ।
 सुहावल—(हिं. वि.) सुहावता, सुंदर ।
 सुहास, सुहासी—(हिं. वि.) सुंदर मुसकान-वाला, चारुहासी ।
 सुहासिनी—(सं. वि. स्त्री.) सुंदर हँसी हँसनेवाली (स्त्री) ।
 सुहित—(सं. वि.) विहित, हितकर ।
 सुहृत्, सुहृद्—(सं. पुं.) मित्र, बन्धु, सखा; (वि.) स्नेहपूर्ण, उदार हृदयवाला ।
 सुहृदय—(सं. वि.) सहृदय, स्नेहशील ।

सुहेला—(हिं. वि.) सुखदायक, सुंदर; (पुं.) मंगल-गीत, स्तुति ।
 सुहोत्र—(सं. पुं.) सहदेव के एक पुत्र का नाम, एक दैत्य का नाम ।
 सूँ—(हिं. अव्य.) तृतीया और पंचमी विभक्ति का चिह्न, सों, से ।
 सूँस—(हिं. पुं.) देखें 'सूस' ।
 सूँघना—(हिं. क्रि. स.) महक लेना, वास लेना, बहुत कम या सूक्ष्म भोजन करना, सर्प का काटना, कल्याण की कामना से बच्चों का मस्तक का वास लेना ।
 सूँघा—(हिं. पुं.) भेदिया, सूँघकर आखेट तक पहुँचानेवाला कुत्ता, वह जो सूँघकर बतला देता हो कि अमुक स्थान में भूमि के भीतर जल या धन है ।
 सूँड़—(हिं. स्त्री.) हाथी की नाक जो बहुत लंबी होती और भूमि तक लटकती है, शुण्ड ।
 सूँडाल—(हिं. पुं.) हाथी ।
 सूँड़ि—(हिं. स्त्री.) हाथी की सूँड़ ।
 सूँड़ी—(हिं. स्त्री.) (कपास, अन्न, ऊख आदि के) पीधों को हानि पहुँचानेवाला एक प्रकार का कीड़ा ।
 सूँस—(हिं. स्त्री.) एक प्रसिद्ध बड़ा जल-जन्तु, शिशुमार ।
 सूँह—(हिं. अव्य.) सम्मुख, सामने ।
 सूअर—(हिं. पुं.) एक स्तनपायी वन्य जन्तु, शूकर, एक प्रकार की गाली; -बियान—(स्त्री.) वह स्त्री जो प्रति वर्ष बच्चा जनती है ।
 सूआ—(हिं. पुं.) बड़ी सूई, सूजा, सुग्गा, तोता ।
 सूई—(हिं. स्त्री.) पक्के लोहे का पतला तार जिसका एक छोर नुकीला तथा दूसरे छोर पर एक छेद होता है जिसमें तागा पिरोकर कपड़ा सीते हैं, सूची, महीन काँटा, घड़ी का काँटा, (कपास, अनाज आदि का) अँखुआ, सूई के आकार की कोई वस्तु; -डोरा—(पुं.) मलखंभ का एक व्यायाम ।
 सूक—(हिं. पुं.) देखें 'शुक, शुक' ।
 सूकना—(हिं. क्रि. अ.) सूखना ।
 सूकर—(सं. पुं.) शूकर, सूअर, एक नरक का नाम; -कंद—(पुं.) बाराहीकन्द; -क्षेत्र—(पुं.) एक प्राचीन तीर्थ का नाम जो मथुरा प्रान्त में है, (अब यह 'सौरों' नाम से प्रसिद्ध है) ।
 सूकरी—(सं. स्त्री.) शूकरी, सूअरी ।
 सूका—(हिं. पुं.) चार आने के मूल्य की मुद्रा, चवत्ती ।

सूदत—(सं. वि.) अच्छी तरह कहा हुआ; (पुं.) उत्तम कथन, उत्तम भाषण, वेद-मन्त्रों या ऋचाओं का समूह, वैदिक स्तुति; -वाक्य—(पुं.) यथोचित वाक्य ।
 सूक्ति—(सं. स्त्री.) युक्तिपूर्ण वाक्य, सुंदर पद या वाक्य ।
 सूक्तिक—(सं. पुं.) एक प्रकार का करताल ।
 सूक्ष्म—(हिं. वि.) देखें 'सूक्ष्म' ।
 सूक्ष्म—(सं. वि.) बहुत महीन, गूढ़ बातों को समझने में समर्थ, कठिनाई से समझ में आने योग्य; (पुं.) परिमृण, लिंग-शरीर, शिव का एक नाम, जीरा, निर्मली, रीठा, सुपारी, छल, कपट, एक काव्यालंकार जिसमें चित्तवृत्तियों का अनुशीलन और वर्णन किया जाता है; -कोण—(पुं.) समकोण से छोटा कोण; -तंडुल—(पुं.) पोस्ते का दाना; -ता—(स्त्री.) बारीकी; -दर्शक धंत्र—(पुं.) अणुवीक्षण यन्त्र, वह यन्त्र जिससे सूक्ष्म पदार्थ बड़े दिखाई पड़ते हैं; -दर्शिता—(स्त्री.) सूक्ष्म बातों को सोचने-समझने का गुण; -दर्शी—(वि.) कुशाग्रबुद्धि, सूक्ष्म बातों को समझने-वाला; -दृष्टि—(वि.) जो सूक्ष्म बातों को समझ लेता हो; -देही—(वि.) सूक्ष्म शरीरवाला; -नाम—(पुं.) विष्णु का एक नाम; -पत्र—(पुं.) घनिया, कुकरौंदा; -पत्रक—(पुं.) बनतुलसी; -पत्रिका—(स्त्री.) सौफ, सतावर; -पर्णी—(स्त्री.) रामतुलसी; -पाद—(वि.) जिसके पैर छोटे हों; -फल—(पुं.) लिसोड़ा; -बीज—(पुं.) खसखस, -भूत—(पुं.) सांख्य के अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँचों तत्व; -मति—(वि.) तीक्ष्णबुद्धि; -वस्त्र—(पुं.) महीन कपड़ा; -शरीर—(पुं.) दर्शन के अनुसार पाँचों प्राण, पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच सूक्ष्म-भूत, मन और बुद्धि—इन सत्रहों तत्वों का समूह ।
 सूक्ष्माक्ष—(सं. वि.) तीव्रदृष्टि ।
 सूक्ष्मात्मा—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 सूख—(हिं. वि.) देखें 'सूखा' ।
 सूखना—(हिं. क्रि. अ.) गीलापन मिट जाना, रसहीन होना, नष्ट होना, दुर्बल होना, सुन्न होना, उदास होना, डरना, तेज नष्ट होना, कड़ा होना; (मुहा.) सूख-कर काँटा हो जाना—बहुत दुर्बल होना ।
 सूखा—(हिं. वि.) जिसमें जल का अंश न-रह गया हो, तेजरहित, कठोर, कोरा; (पुं.) पानी का न बरसना, अवर्षण,

जलहीन स्थान, नदी का किनारा, बच्चों की एक प्रकार की बीमारी, सुखंडी, सूखा हुआ तंबाकू का पत्ता जो चूना मिलाकर खाया जाता है; (मुहा.)—जवाब देना—स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करना।

सूधर—(हि. वि.) देखें 'सुघड़'।

सूचक—(सं. वि.) सूचना देनेवाला, ज्ञापक, बोधक; (पुं.) सूई, दरजी, सूत्रकार, गुप्तचर, भेदिया, पिशुन, कौआ, विल्ली, सियार, एक प्रकार का महीन चावल।

सूचना—(सं. स्त्री.) बताने या भेद देने की क्रिया, विज्ञप्ति, ज्ञापन, वह बात जो बतलाने के लिये कही जाय, विज्ञापन, संकेत, बतलाना;—पत्र—(पुं.) विज्ञापन, विज्ञप्ति।

सूचनीय—(सं. वि.) सूचित करने योग्य।

सूचा—(हि. स्त्री.) सूचना, संकेत; (वि.) सावधान।

सूचिक—(सं. पुं.) दरजी।

सूचिका—(सं. स्त्री.) सूई, हाथी की सूँड़, केवड़ा, एक अप्सरा का नाम।

सूचिकामुख—(सं. पुं.) हाथी।

सूचित—(सं. वि.) ज्ञापित, बतालाया हुआ, बहुत उपयुक्त या योग्य।

सूचिभेद्य—(सं. वि.) बहुत घना।

सूचिमल्लिका—(सं. स्त्री.) नेवारी का फूल।

सूचिरदन—(सं. पुं.) नकुल, नेवला।

सूचिरोमा—(सं. पुं.) बराह, शूकर।

सूचिवत् (वान्)—(सं. पुं.) गरुड़।

सूचिवदन—(सं. पुं.) नेवला, मच्छड़।

सूचिशालि—(सं. पुं.) एक प्रकार का महीन चावल।

सूचिशिला—(सं. स्त्री.) सूई की नोक।

सूचिसूत्र—(सं. पुं.) सूई में पिरोने का धागा।

सूचि—(सं. स्त्री.) कपड़ा सीने की सूई, दृष्टि, भेदिया, सफेद कुश, केतकी, केवड़ा, सेना का एक प्रकार का व्यूह, पुस्तक के अध्यायों की तालिका, कोई अन्य तालिका, पिगल के अनुसार एक मुक्ति जिससे मात्रिक छन्दों की संख्या आदि जानी जाती है;—कर्म—(पुं.) सिलाई का काम;—पत्र—(पुं.) पुस्तकों के नाम, मूल्य आदि का विवरण-पत्र;

—पद्य—(पुं.) सेना का एक प्रकार का व्यूह;—पाश—(पुं.) सूई का छेद;

—मुख—(पुं.) हीरा एक नरक का नाम।

सूच्यम—(हि. वि.) देखें 'सूधम'।

सूच्यकार—(सं. वि.) सूई के आकार का, लंबा और नुकीला।

सूच्यार्थ—(सं. पुं.) साहित्य में किसी पद आदि का वह अर्थ जो शब्दों की व्यंजना-शक्ति से जाना जाता है।

सूधम—(हि. वि.) देखें 'सूधम'।

सूजन—(हि. स्त्री.) सूजने की क्रिया या अवस्था, शोथ।

सूजना—(हि. क्रि. अ.) शरीर के किसी अंग का फूलना, शोथ होना।

सूजनी—(हि. स्त्री.) देखें 'सूजनी'।

सूजा—(हि. पुं.) मोटी बड़ी सूई, सूआ, छक्रड़ा, गाड़ी के पीछे की ओर उसको टिकाने के लिये लगाया हुआ डंडा।

सूजाक—(फा.पुं.) एक प्रकार का प्रमेह रोग।

सूजी—(हि. स्त्री.) गेहूँ का दरदरा आटा जो अनेक प्रकार के पकवान बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, सूई; (पुं.) दरजी।

सूझ—(सं. स्त्री.) दृष्टि, अनुठी बात, उद्भावना;—बूझ—(स्त्री.) सोचने-समझने की बुद्धि।

सूझना—(हि. क्रि. अ.) दिखाई पड़ना, ध्यान में आना, छुट्टी पाना।

सूटा—(हि. पुं.) तंबाकू या गाँजे का धुआँ जोर से खींचना।

सूत—(सं. पुं.) रथ हाँकनेवाला, सारथि, बढ़ई, सूत्रकार, पौराणिक, एक वर्ष-संकर-जाति, सूर्य, पारा, विश्वामित्र के एक पुत्र का नाम; (वि.) प्रसूत, प्रेरित किया हुआ।

सूत—(हि. पुं.) कपड़ा बुनने का धागा, रेशम आदि का महीन रेशा या तन्तु, तागा, डोरा, करधनी, नापने का एक मान, लकड़ी आदि गढ़ते समय उस पर चिह्न डालने की सूत की डोरी, थोड़े शब्दों में बहुत अर्थ व्यक्त करना; (वि.) भला, अच्छा।

सूतक—(सं. पुं.) जन्म, वह अशौच जो सन्तान होने पर परिवारवालों को लगता है, मरणाशौच जो परिवार में किसी के मरने पर लगता है, सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहण;—गेह—(पुं.) सूतिकागृह।

सूतकान्न—(सं. पुं.) सूतकी के घर का अन्न।

सूतकाशौच—(सं. पुं.) जननाशौच।

सूतकी—(सं. वि.) जिसको सूतक लगा हो।

सूतज, सूततनय—(सं. पुं.) कर्ण का नाम।

सूतधार—(हि. पुं.) बढ़ई।

सूतनंदन—(सं. पुं.) कर्ण।

सूतना—(हि. क्रि. अ.) निद्रा लेना, सोना।

सूतपुत्र—(सं. पुं.) कर्ण, कीचक, सारथि।

सूतलड़—(हि. पुं.) रहट।

सूतवशा—(सं. स्त्री.) बच्चा न देनेवाली गाय।

सूता—(हि. पुं.) तन्तु, सूत; (सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसने बच्चा जना हो।

सूति—(सं. स्त्री.) जनन, प्रसव, जन्म, सोवन, अन्न की उत्पत्ति; (पुं.) हंस।

सूतिका—(सं. स्त्री.) वह स्त्री जिसने हाल में बच्चा जना हो।

सूतिकागार, सूतिकागृह—(सं. पुं.) प्रसव-गृह, सौरी।

सूतिगृह—(सं. पुं.) देखें 'सूतिकागार'।

सूतिमास्त—(सं. पुं.) प्रसव-पीड़ा।

सूतिमास—(सं. पुं.) वह महीना जिसमें किसी स्त्री को प्रसव हो।

सूती—(हि. वि.) सूत का बना हुआ; (स्त्री.) सीपी।

सूतीघर—(हि. पुं.) सूतिकागार।

सूत्र—(सं. पुं.) तन्तु, सूत, तागा, डोरा, यज्ञोपवीत, जनेऊ, व्यवस्था, नियम, रेखा, निमित्त, कारण, मूल, पता लगाने का साधन, टोह, थोड़े अक्षरों या शब्दों में कहा हुआ ऐसा पद या वचन जो बहुत अर्थ प्रकट करता हो।

सूत्रकण्ठ—(सं. पुं.) खंजन पक्षी, कवूतर।

सूत्रक—(सं. पुं.) सूत, वागा।

सूत्रकर्म—(सं. पुं.) बढ़ई का काम।

सूत्रकार—(सं. पुं.) सूत्रों की रचना करनेवाला, बढ़ई, जुलाहा।

सूत्रकोश—(सं. पुं.) सूत की अंटी।

सूत्रग्रंथ—(सं. पुं.) सूत्रों में रचित मूलग्रंथ।

सूत्रतर्कुटी—(सं. स्त्री.) तकली, टेकुआ।

सूत्रधार—(सं. पुं.) नाट्यशाला का व्यवस्थापक या प्रधान नट।

सूत्रपात—(सं. पुं.) आरंभ, शुरु।

सूत्रपुष्प—(सं. पुं.) कपास का पीघा।

सूत्रयंत्र—(सं. पुं.) करघा, ढरकी।

सूत्रला—(सं. स्त्री.) तकली, टेकुआ।

सूत्रवाप—(सं. पुं.) कपड़ा बुनने का काम।

सूत्रविक्रयी—(सं. वि.) सूत बेचनेवाला।

सूत्रविद्—(सं. पुं.) सूत्रों को जाननेवाला।

सूत्रवेष्टन—(सं. पुं.) करघा।

सूत्रशाख—(सं. पुं.) शरीर।

सूत्रात्मा—(सं. पुं.) जीवात्मा।

सूत्राली—(सं. स्त्री.) माला, हार।

सूत्री—(सं. वि.) सूत्रयुक्त।

सूत्रीय—(सं. वि.) सूत्र-संबंधी।

सूथन—(हि. पुं.) पाजामा, सुथना।

सूथनी—(हि. स्त्री.) स्त्रियों का पहनने का पायजामा, सुथना।

सूथार—(हि. पुं.) सुतार।

सूद—(सं. पुं.) सूपकार, रसोइया;

(फा. पुं.) व्याज, लाम।

सूदक-(सं. वि.) नाश करनेवाला।
 सूदकर्म-(सं. पुं.) भोजन पकाना।
 सूदखोर-(फा. पुं.) सूद लेनेवाला।
 सूदखोरी-(फा. स्त्री.) सूद या व्याज लेना।
 सूदन-(सं. पुं.) अंगीकार करने की क्रिया, वध, नाश, फेंकने की क्रिया।
 सूदना-(हि. क्रि. स.) नाश करना।
 सूदशाला-(सं. स्त्री.) पाकशाला।
 सूदशास्त्र-(सं. पुं.) पाकशास्त्र।
 सूदा-(हि. पुं.) ठगों की मण्डली का वह ठग जो यात्रियों को बहकाकर अपनी मण्डली में लाता है।
 सूदित-(सं. वि.) आहत, नष्ट किया हुआ।
 सूदी-(हि. वि.) व्याज पर लिया या दिया हुआ (धन)।
 सूध-(हि. वि.) देखें 'सूधा'; (स्त्री.) सीध; (अव्य.) सीधा।
 सूधना-(हि. क्रि. अ.) सच होना, ठीक होना।
 सूधा-(हि. वि.) सीधा, सरल, जो बक्र न हो।
 सूध-(हि. अव्य.) सीधे।
 सून-(सं. पुं.) प्रसव, फूल, पुत्र; (वि.) फूला हुआ, विकसित, उत्पन्न; (हि. वि.) शून्य, सूना, रहित।
 सूनसान-(हि. वि.) सुनसान, निर्जन।
 सूना-(हि. वि.) जनहीन; (पुं.) निर्जन स्थान; -पन-(पुं.) एकान्त, सन्नटा; (मुहा.)-लगना-उदास लगना।
 सूनिक-(सं. पुं.) मांस बेचनेवाला।
 सूनु-(सं. पुं.) सूर्य, पुत्र, बेटा, छोटा भाई, नाती।
 सूनुत-(सं. वि., पुं.) सत्य और प्रिय (वचन), दयालु।
 सूनुता-(सं. स्त्री.) सत्य और प्रिय भाषण, सद्भाव।
 सूप-(सं. पुं.) (मूंग, अरहर, मसूर आदि की) पकी हुई दाल, रसदार तरकारी, वाण, तीर, रसोइया; (हि. पुं.) अनाज फटकने का सीकों का बना हुआ पात्र।
 सूपक-(हि. पुं.) रसोइया।
 सूपनखा-(हि. स्त्री.) देखें 'शूर्पणखा'।
 सूपशास्त्र-(सं. पुं.) पाकशास्त्र।
 सूपस्थान-(सं. पुं.) पाकशाला।
 सूपांग-(सं. पुं.) हींग।
 सूपा-(हि. पुं.) शूर्प, सूप।
 सूपाय-(सं. पुं.) सद्पाय, उत्तम उपाय।
 सूफिया-(अ. पुं.) मुसलमान साधुओं का एक संप्रदाय।
 सूफियाना-(अ. वि.) सूफियों के योग्य।

सूफी-(फा. वि.) संत, पवित्र; (पुं.) उदासीन, इस्लामी फकीर।
 सूव-(हि. पुं.) ताँवा।
 सूवडा-(हि. पुं.) वह चाँदी जिसमें जस्ते का मेल हो।
 सूवा-(अ. पुं.) राज्य का प्रदेश या प्रांत।
 सूवेदार-(अ. पुं.) सूवे का शासक।
 सूवेदारी-(अ. स्त्री.) सूवेदार का पद।
 सूभर-(हि. वि.) शूभ्र, सुंदर, सफेद।
 सूभ-(सं. पुं.) दूध, जल, आकाश; (हि. वि.) कंजूस, कृपण।
 सूर-(सं. पुं.) सूर्य, अर्क, मदार, आचार्य, पण्डित, छपय का एक भेद; (हि. पुं.) सूरदास कवि; (हि. वि.) अंवा।
 सूरकंद-(सं. पुं.) जमीकन्द, सूरन।
 सूरकांत-(सं. पुं.) सूर्यकान्त मणि।
 सूरकुमार-(सं. पुं.) वसुदेव।
 सूरज-(हि. पुं.) सूर्य; (सं. पुं.) शनि, सुग्रीव; (मुहा.)-को दीपक दिखाना-जो स्वयं पण्डित है उसको शिक्षा देना; -पर थकना-(किसी निर्दोष व्यक्ति पर) लांछन लगाना।
 सूरज भगत-(हि. पुं.) एक प्रकार की गिलहरी।
 सूरजमुखी-(हि. स्त्री.) एक पौधा जिसमें पीले रंग के बड़े फूल लगते हैं; (सूर्यास्त के समय यह फूल नीचे की ओर झुक जाता और सूर्यादय होने पर फिर उठने लगता है, सूर्यमुखी।
 सूरज-सुत-(हि. पुं.) सुग्रीव।
 सूरज-सुता-(हि. स्त्री.) यमुना नदी।
 सूरण-(सं. पुं.) जमीकंद, ओल।
 सूरत-(अ. पुं.) कुरान का एक अध्याय, रूप, शकल, चेहरा, सुंदरता, उपाय, ढंग, तीर, लक्षण; -दार-(वि.) सुंदर; -हराम-(वि.) देखने में सुंदर पर निकम्मा।
 सूरता, सूरताई-(हि. स्त्री.) देखें 'शूरता'।
 सूरति-(हि. स्त्री.) स्मरण, सुध, सूरत।
 सूरदास-(हि. पुं.) हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि का नाम जो अनन्य कृष्ण-भक्त और अन्वेषे थे।
 सूरन-(हि. पुं.) जमीकन्द, ओल।
 सूरपनखा-(हि. स्त्री.) देखें 'शूर्पणखा'।
 सूरपुत्र-(सं. पुं.) सूर्य के पुत्र सुग्रीव।
 सूरमा-(हि. पुं.) वीर, योद्धा, बहादुर।
 सूरमापन-(हि. पुं.) शूरता।
 सूरसागर-(हि. पुं.) हिन्दी के महाकवि सूरदास-कृत एक महाकाव्य जिसमें कृष्ण-लीलाओं का वर्णन है।

सूरसावंत-(सं. पुं.) नायक, सरदार, युद्ध-मन्त्री।
 सूरसुत-(सं. पुं.) सुग्रीव, शनि ग्रह।
 सूरसुता-(सं. स्त्री.) सूर्य की लड़की यमुना।
 सूरसूत-(सं. पुं.) सूर्य के सारथि अरुण।
 सूरसेन-(हि. पुं.) देखें 'शूरसेन'; -पुर-(पुं.) मथुरा नगरी।
 सूरि-(सं. पुं.) पण्डित, विद्वान्, सूर्य।
 बृहस्पति, कृष्ण, ऋत्विक्, यज्ञ करनेवाला, सूरि-(सं. स्त्री.) पंडिता, विदुषी, सूर्य की पत्नी, कुन्ती।
 सूरुज-(हि. पुं.) देखें 'सूर्य'।
 सूर्प-(सं. पुं.) शूर्प, सूप।
 सूर्पनखा-(हि. स्त्री.) शूर्पणखा।
 सूर्य-(सं. पुं.) रवि, आदित्य, सूरज, सोना, ताँवा, बलि के एक पुत्र का नाम, अर्क, आक, बारह की संख्या; -कर्म- (पुं.) सूरजमुखी का फूल; -कांत-(पुं.) एक मणि; -काल-(पुं.) दिवस, दिन; -ग्रहण-(पुं.) सूर्य का ग्रहण; -ज-(पुं.) मनु, यम, शनि ग्रह, सुग्रीव, कर्ण, रेवन्त; -जा-(स्त्री.) यमुना नदी; -तनय-(पुं.) सूर्य के पुत्र, मनु, यम आदि; -तनया-(स्त्री.) यमुना नदी; -तापिनी-(स्त्री.) एक उप-निषद् का नाम; -नक्षत्र-(पुं.) सूर्य के साथ किसी नक्षत्र का योग; -नाभ-(पुं.) एक दानव का नाम; -नेत्र-(पुं.) गरुड़ के एक पुत्र का नाम; -पत्नी-(स्त्री.) छाया; -पत्र-(पुं.) मदार का पौधा; -पर्व-(पुं.) वह समय जब सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश करता है; -पाद-(पुं.) सूर्य-किरण; -पुत्र-(पुं.) वरुण, शनि, यम, अश्विनीकुमार, सुग्रीव, कर्ण; -पुत्री-(स्त्री.) यमुना, विजली; -पूजा-(स्त्री.) सूर्य की उपासना; -प्रभ-(पुं.) एक प्रकार की समाधि; (वि.) सूर्य के समान दीप्तिमान्; -बिंब-(पुं.) सूर्य का मण्डल; -भक्त-(पुं.) सूर्य का उपासक; -भ्राता-(पुं.) ऐरावत हाथी; -मंडल-(पुं.) सूर्य का घेरा; -मणि-(पुं.) सूर्यकान्त मणि; -मुखी-(पुं.) सूरजमुखी; -रश्मि-(पुं.) सूर्य की किरण; -लोक-(पुं.) सौर जगत्; -वंश-(पुं.) सूर्य की सन्तति, इक्ष्वाकु वंश; -वल्गुभा-(स्त्री.) कमलिनी; -वार-(पुं.) रविवार; -विलोकन-(पुं.) जन्म के चौथे महीने होनेवाला एक मांगलिक कृत्य

जिसमें नवजात शिशु को सूर्य का दर्शन कराया जाता है; -वृक्ष-(पुं.) मदार का पौधा; -व्रत-(पुं.) रविवार को किया जानेवाला व्रत; -शोभा-(स्त्री.) सूर्य का प्रकाश, धूप; -संक्रम-(पुं.) सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश; -सारथि-(पुं.) अरुण; -सुत-(पुं.) शनि, कर्ण, सुग्रीव।

सूर्याशु-(सं. पुं.) सूर्य की किरण।
सूर्या-(सं. स्त्री.) सूर्य की पत्नी, सन्ध्या।
सूर्यातप-(सं. पुं.) धूप।
सूर्यात्मज-(सं. पुं.) कर्ण, शनि, सुग्रीव।
सूर्यायाम-(सं. पुं.) सूर्यास्त का समय।
सूर्यालोक-(सं. पुं.) सूर्य का प्रकाश।
सूर्यावर्त-(सं. पुं.) हुरहुर, गजपीपल, अर्धकपाली, आघासीसी।

सूर्यान्त-(सं. पुं.) सूर्यान्त मणि।
सूर्यास्त-(सं. पुं.) सूर्य के डूबने का समय।
सूर्योदय-(सं. पुं.) सूर्य के निकलने का समय, प्रातःकाल।

सूर्योपस्थान-(सं. पुं.) वैदिक सन्ध्योपासन में सूर्य की एक प्रकार की उपासना।
सूर्योपासक-(सं. पुं.) सूर्य की उपासना या पूजा करनेवाला।
सूर्योपासना-(सं. स्त्री.) सूर्य की पूजा या उपासना।

शूल-(हिं. पुं.) शूल, बरछा, भाला, कोई चुभनेवाली नुकीली वस्तु, भाला चुभने के समान पीड़ा, भाला के ऊपर का फूलरा; -घर, -धारी-(पुं.) देखें 'शूलघर', 'शूलधारी'।

शूलना-(हिं. क्रि. अ., स.) भाले से छेदना या छिदना, व्यथित होना, पीड़ा होना।
शूलपाणि-(हिं. पुं.) देखें 'शूलपाणि'।
शूली-(हिं. स्त्री.) प्राण-दण्ड देने की एक प्राचीन रीति जिसमें अपराधी को नुकीले डंडे के ऊपर बैठा दिया जाता और उसके मस्तक पर प्रहार किया जाता था, शूली, फाँसी।

शूवना-(हिं. क्रि. अ.) बहना।
शूवा-(हिं. पुं.) शुक, सुग्गा।
शूस, शूसमार-(हिं. पुं.) एक प्रकार का जलजन्तु, शिशुमार।

सूहा-(हिं. पुं.) एक प्रकार का लाल रंग, सम्पूर्ण जाति का एक संकर राग; (वि.) लाल रंग का; -काहड़ा-(पुं.) सम्पूर्ण जाति की एक रागिनी; -टोड़ी-(स्त्री.) सम्पूर्ण जाति की एक संकर रागिनी।

सूही-(हिं. वि. स्त्री.) देखें 'सूहा'; (स्त्री.)

लालिमा।

सूखला-(हिं. स्त्री.) देखें 'शृंखला'।
सूंग-(हिं. स्त्री.) देखें 'शृंग'; -वेरपुर-(पुं.) देखें 'शृंगवेरपुर'।

सूंगी-(हिं. पुं.) देखें 'शृंगी'।
सूजय-(सं. पुं.) मनु के एक पुत्र का नाम, वह वंश जिसमें घृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए थे।
सूकंडु-(सं. पुं.) खुजली का रोग।
सूक-(सं. पुं.) बाण, कमल, वायु, वज्र; (हिं. स्त्री.) माला।

सूकाल-(हिं. पुं.) शृगाल, सियार।
सूकथा-(सं. स्त्री.) जोंक।
सूग-(हिं. स्त्री.) माला, गजरा, हार।
सूगाल-(सं. पुं.) सियार, गीदड़, भीरु या डरपीक व्यक्ति, धूर्त; -वदन-(पुं.) एक असुर का नाम।

सूगालिनी, सूगाली-(सं. स्त्री.) गीदड़ी, लोमड़ी।
सूगिनी-(हिं. स्त्री.) देखें 'सूगिणी'।
सूगक-(हिं. पुं.) सृष्टि करनेवाला, उत्पन्न करनेवाला।

सूजन-(हिं. पुं.) सृष्टि, सर्जन।
सूजनहार-(हिं. पुं.) सृष्टिकर्ता।
सूजना-(हिं. क्रि. स.) सृष्टि करना, उत्पन्न करना।

सूज्य-(सं. वि.) सूजन करने योग्य।
सूणीका-(सं. स्त्री.) थूक, लार।
सूत-(सं. वि.) खिसका हुआ।
सूष्ट-(सं. वि.) रचित, निश्चित, संकल्प में दृढ़, अलंकृत, युक्त, उत्पन्न।

सूष्टि-(सं. स्त्री.) निर्माण, रचना, उत्पत्ति, जगत् की उत्पत्ति, प्रकृति, संसार, उदारता; -कर्ता-(पुं.) संसार की रचना करनेवाले ब्रह्मा, ईश्वर; -विज्ञान-(पुं.) वह शास्त्र जिसमें सृष्टि-रचना आदि का विवेचन हो।

सूक-(हिं. स्त्री.) सूकने की क्रिया या भाव।
सूकना-(हिं. क्रि. स.) आँच के समीप अथवा आग पर रखकर गरम करना, भूना; (मुहा.) आँख सूकना-सुंदर स्त्री को एक-टक देखना; धूप सूकना-धूप में बैठकर शरीर को गरम करना।

सूंगर-(हिं. पुं.) एक पौधा जिसकी फलियों की तरकारी बनती है, बबूल का फल, एक प्रकार का अगहनिया घान, क्षत्रियों की एक शाखा।

सूंगरा-(हिं. पुं.) वह मोटा डंडा जिससे रस्सियों से लटकाकर भारी पत्थर आदि एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं।

सूठा-(हिं. पुं.) मूँज के सरकंडे का निचला भाग

सूँढ़-(हिं. पुं.) एक प्रकार का खनिज पदार्थ।
सूँत-(हिं. स्त्री.) किसी चीज की प्राप्ति में कुछ व्यय न होना, कुछ धन न लगना; -का-विना दाम का, संख्या या परिमाण में बहुत अधिक; -मैं-(अव्य.) विना कुछ दाम दिये; -मैंत-(अव्य.) विना दाम दिये, वृथा।

सूँत, सती-(हिं. स्त्री.) देखें 'सैत'।
सूँथी-(हिं. स्त्री.) वरछी, भाला।
सूँदुर-(हिं. पुं.) देखें 'सिंदूर', इंगुर की बुकनी; (मुहा.)-चढ़ना-किसी कन्या का विवाह होना; -देना-विवाह के समय वर का कन्या की माँग में सूँदुर भरना।

सूँदुरा-(हिं. वि.) सूँदुर के रंग का; (पुं.) सूँदुर रखने का डिब्बा।

सूँदुरिया-(हिं. पुं.) एक सदाबहार पौधा जिसमें सिन्दूर के समान लाल फूल लगते हैं; (वि.) सूँदुर के रंग का।

सूँदुरी-(हिं. स्त्री.) लाल रंग की गाय।

सूँध-(हिं. स्त्री.) चोरी करने के लिये भीत खोदकर बनाया हुआ छेद जिससे होकर चोर घर के भीतर घुसता है, सुरंग।

सूँधना-(हिं. क्रि. स.) सूँध या सुरंग लगाना।

सूँधा-(हिं. पुं.) एक प्रकार का नमक जो खान से निकलता है, सैन्धव, लाहौरी नमक।

सूँधिया-(हिं. वि.) रात को सूँध लगानेवाला; (पुं.) ककड़ी की जाति की एक लता, फूट, एक प्रकार का विष, श्वालियर का प्रसिद्ध मराठा राजवंश।

सूँधी-(हिं. स्त्री.) खजूर, खजूर की मदिरा।

सूँधुर-(हिं. पुं.) देखें 'सिंदूर', सिन्दूर।

सूँवई-(हिं. स्त्री.) मैदे के सुखाये हुए सूत के समान महीन लच्छे जो धी में तलकर तथा दूध और चीनी में पकाकर खाये जाते हैं।

सूँवर-(हिं. पुं.) देखें 'सैमल'।

सूँहा-(हिं. पुं.) कुआँ खोदनेवाला श्रमिक।

सूँहड़-(हिं. पुं.) थूहर।

से-(हिं. विभ.) करण और अपादान कारकों का चिह्न, तृतीया और पंचमी की विभक्ति; (वि.) 'सा' का बहुवचन रूप, समान, सदृश; (सर्व.) वे (ब्रजभाषा में)।

सेउ-(हिं. पुं.) देखें 'सैव'।

सेक-(सं. पुं.) जल-सिंचन, सिंचाव, छिड़काव, छींटा, अभिषेक।

सेकड़ा-(हिं. पुं.) हलवाहे की बँल हाँकने की छड़ी।

सेकपात्र, सेकभाजन—(सं. पुं.) सींचने का पात्र ।

सेकित—(सं. वि.) खूब सींचा हुआ ।

सेकुवा—(हिं. पुं.) लंबे डंडे का करछा ।

सेकतव्य—(सं. वि.) सींचने योग्य ।

सेकता—(सं. पुं.) सींचनेवाला ।

सेखर—(हिं. पुं.) देखें 'शेखर' ।

सेचक—(सं. वि.) सींचनेवाला; (पुं.) मेघ, बादल ।

सेचन—(सं. पुं.) सिंचाई, छिड़काव, मार्जन, अमिषेक ।

सेचनीय—(सं. वि.) सींचने योग्य ।

सेचित्त—(सं. वि.) सींचा हुआ ।

सेच्य—(सं. वि.) सींचने योग्य ।

सेज—(हिं. स्त्री.) शय्या, पलंग, बिछौना ।

सेजपाल—(हिं. पुं.) राजा के शयनागार पर पहरा देनेवाला ।

सेजरिया—(हिं. स्त्री.) छोटा पलंग या सेज ।

सेज्या—(हिं. स्त्री.) शय्या, सेज ।

सेज्ञना—(हिं. क्रि. अ.) दूर होना, हटना ।

सेटना—(हिं. क्रि. अ.) समझना, बूझना, मानना ।

सेठ—(हिं. पुं.) महाजन, साहूकार, कोठीवाल, बड़ा व्यापारी, धनी मनुष्य, सुनार, खत्रियों की एक जाति, दलाल ।

सेठन—(हिं. पुं.) झाड़ू, बुहारी ।

सेत—(हिं. पुं.) देखें 'सेतु'; (वि.) श्वेत;

—कुली—(पुं.) सफेद जाति का नाग;

—डुति—(पुं.) चन्द्रमा; —बाह—(पुं.) चन्द्रमा, अर्जुन; —बाल—(पुं.) वैश्यों की एक जाति ।

सेतिका—(सं. स्त्री.) अयोध्या नगरी ।

सेतु—(सं. पुं.) जल रोकने का बाँध, मेंड़, पुल, सीमा, मर्यादा, व्यवस्था, टीका, व्याख्या, प्रणव, ओंकार; —क—(पुं.) पुल, बाँध; —कर—(वि.) पुल बनानेवाला; —प्रद—(पुं.) कृष्ण का एक नाम;

—बंध—(पुं.) वह पुल जो लंका पर आक्रमण करने के लिये श्री रामचन्द्र ने समुद्र पर वनवाया था; —बंधन—(पुं.) नदी में पुल की बाँधाई; —भेद—(पुं.) पुल का टूटना; —शैल—(पुं.) सरहद का पहाड़ ।

सेथिया—(हिं. पुं.) नेत्रों की चिकित्सा करनेवाला ।

सेद—(हिं. पुं.) देखें 'स्वेद', पसीना ।

सेदज—(हिं. वि.) देखें 'स्वेदज' ।

सेदरा—(हिं. पुं.) वह घर जिसमें तीन ओर द्वार हों ।

सेध—(सं. पुं.) निषेध, निवारण ।

सेचक—(सं. वि.) हटाने या रोकनेवाला ।

सेन—(सं. पुं.) सेना, शरीर, जीवन, बंगाल के वैद्य जाति की उपाधि; (वि.) सनाय, आश्रित, अधीन; (हिं. पुं.) वाज पक्षी; (सं. स्त्री.) 'सेना' का समासगत रूप ।

सेनजित्—(सं. वि.) सेना को जीतनेवाला; (पुं.) कृष्ण के एक पुत्र का नाम ।

सेनप—(सं. पुं.) सेनापति ।

सेना—(सं. स्त्री.) युद्ध की शिक्षा पाये हुए अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित मनुष्यों का समूह, पलटन, सिपाहियों का जत्था, भाला, बरछा, इन्द्र का वज्र; (हिं. क्रि. स.) सेवा-टहल करना, आराधना करना, व्यवहार करना, लिये बैठे रहना, पड़ा रहना, चिड़ियों का अंडे पर बैठना; —कर्म—(पुं.) सेना का नेतृत्व; —न—(पुं.) सेना का अगला भाग; —जीवी—(पुं.) सैनिक, योद्धा; —दार—(हिं. पुं.) सेनानायक; —नायक—(पुं.) सेनापति; —पति—(पुं.) सेनानायक, धृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम; —पत्य—(पुं.) सेनापति का कार्य या पद; —पाल—(पुं.) सेनापति; —मुख—(पुं.) सेना का अगला भाग; —वास—(पुं.) वह स्थान जहाँ सेना रहती हो, छावनी, शिविर; —बाह—(पुं.) सेनानायक; —व्यूह—(पुं.) सैन्य-विन्यास, सेना की विभिन्न स्थानों में विशेष प्रकार से नियुक्ति; —स्थान—(पुं.) शिविर ।

सेनाधिप—(सं. पुं.) सेनापति ।

सेनाध्यक्ष—(सं. पुं.) सेनापति ।

सेनानी—(सं. पुं.) सेनापति, कार्तिकेय का एक नाम, एक रूद्र का नाम ।

सेनि—(हिं. स्त्री.) देखें 'श्रेणी' ।

सेनिका—(हिं. स्त्री.) वाज पक्षी की मादा, एक छन्द का नाम ।

सेव—(फा. पुं.) एक प्रसिद्ध फल तथा उसका वृक्ष ।

सेमंती—(सं. स्त्री.) सफेद गुलाब ।

सेम—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की फली जिसकी तरकारी खाई जाती है ।

सेमई—(हिं. पुं.) हलका हरा रंग; (वि.) हलके हरे रंग का; (स्त्री.) सेवई ।

सेमर—(हिं. पुं.) दलदल भूमि, सेमल ।

सेमल—(हिं. पुं.) एक बहुत बड़ा वृक्ष जिसमें लाल फूल होते हैं, इसके फलों या ढोड़ों में गूदा नहीं होता केवल रुई होती है ।

सेमा—(हिं. पुं.) बड़ी सेम ।

सेर—(हिं. पुं.) सोलह छटाक या अस्सी

तोले की तौल, मन का चालीसवाँ भाग, एक प्रकार धान, सिंह; (फा. वि.) तृप्त ।

सेरबा—(हिं. पुं.) वह कपड़ा जो अन्न को ओसाने में हवा करने के लिये प्रयोग में लाया जाता है ।

सेरही—(हिं. स्त्री.) फसल की उपज पर लगनेवाला एक कर ।

सेरा—(हिं. पुं.) चारपाई की पाटी जो सिरहाने की ओर रहती है ।

सेराना—(हिं. क्रि. अ., स.) शीतल होना, ठंडा होना, तृप्त होना, समाप्त होना, जीवित न रहना, ठंडा करना, मूर्ति आदि का जल में प्रवाह करना ।

सेराल—(सं. पुं.) हलका पीलापन ।

सेरीना—(हिं. स्त्री.) अन्न या चारे का वह अंश जो कृषक भूस्वामी को देता है ।

सेल—(हिं. पुं.) माला, बरछा ।

सेलखड़ी—(हिं. स्त्री.) खड़िया मिट्टी ।

सेलना—(हिं. क्रि. अ.) मर जाना ।

सेला—(हिं. पुं.) रेशमी चादर या दुपट्टा, साफा, भुजिया धान ।

सेलिया—(हिं. पुं.) घोड़े की एक जाति ।

सेलिस—(सं. पुं.) एक प्रकार का सफेद हिरन ।

सेली—(हिं. स्त्री.) छोटा माला, बरछी, छोटा दुपट्टा, गाँती, एक प्रकार की मछली, बच्ची या माला जिसको साधु गले में डाले रहते अथवा माथे पर लपेटते हैं, एक प्रकार का स्त्रियों का गहना ।

सेल्ला—(हिं. पुं.) एक प्रकार का अस्त्र, भाला ।

सेल्ह—(हिं. पुं.) देखें 'सेल' ।

सेल्हा—(हिं. पुं.) देखें 'सेला', एक प्रकार का अगहनिया धान ।

सेल्ही—(हिं. स्त्री.) छोटा दुपट्टा, गाँती ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

सेवई—(हिं. स्त्री.) गूथे हुए मैदे के सूत के समान लच्छे जो धी में भूनकर तथा दूध और चीनी में पका कर खाये जाते हैं ।

जो सफेद होता है।

सेवन—(सं. पुं.) सीना, गूँथना, आराधना, पूजन, निरंतर निवास, सम्भोग, उपभोग, प्रयोग, सेवा, परिचर्या; (हिं. पुं.) साँव की तरह की एक प्रकार की घास।

सेवना—(हिं. क्रि. स.) देखें 'सेना'।

सेवनी—(सं. स्त्री.) सूची, सूई, जोड़, टांका, दासी।

सेवनीय—(सं. वि.) सेवा करने योग्य, पूजा के योग्य, सीने योग्य।

सेवर—(हिं. पुं.) देखें 'शवर'; (वि.) कम पका हुआ (मिट्टी का पात्र)।

सेवल—(हिं. पुं.) विवाह की एक रीति।

सेवा—(सं. स्त्री.) दूसरे को सुख पहुँचाने का काम, टहल, चाकरी, आराधना, पूजा, आश्रय, शरण, रक्षा, संभोग, मैथुन;

—में—(हिं. अव्य.) सेवा-कार्य के लिए।

सेवा-टहल—(हिं. स्त्री.) परिचर्या, शुश्रूपा।

सेवाती—(हिं. स्त्री.) देखें 'स्वाति'।

सेवा-धर्म—(सं. पुं.) सेवा-संबंधी काम।

सेवापन—(हिं. पुं.) दासत्व, टहल।

सेवाबंदगी—(हिं. स्त्री.) आराधना, पूजा।

सेवार, सेवाल—(हिं. स्त्री.) एक तरह की पानी में फँसनेवाली घास, शैवाल।

सेवावृत्ति—(सं. स्त्री.) दासत्व।

सेवि—(सं. पुं.) वेर का फल, सेव।

सेविका—(सं. स्त्री.) सेवई नामक पकवान, परिचारिका, दासी।

सेवित—(सं. वि.) जिसकी परिचर्या या सेवा की गई हो, आराधित, उपभोग किया हुआ, आश्रित, व्यवहार में लाया हुआ।

सेवितव्य—(सं. वि.) सेवा के योग्य, आश्रयणीय।

सेविता—(सं. स्त्री.) सेवा, दासवृत्ति; (पुं.) उपासक, उपभोग करनेवाला।

सेवी—(सं. वि.) सेवा या आराधना करनेवाला, संभोग करनेवाला।

सेव्य—(सं. पुं.) पीपल का वृक्ष, गौरैया पक्षी, जल, एक प्रकार का मद्य, स्वामी, मालिक; (वि.) आराधना करने योग्य, रक्षा करने योग्य; —सेवक—(पुं.) स्वामी और सेवक।

सेव्या—(सं. स्त्री.) वह पौधा जो दूसरे पेड़ों पर उगता है, बंदाल।

सेश्वर—(सं. वि.) ईश्वरयुक्त, जिसमें ईश्वर की सत्ता मानी गई हो;

—सांख्य—(पुं.) पातंजल-दर्शन।

सेप—(हिं. पुं.) देखें 'शेप'।

सेस—(हिं. पुं.) देखें 'शेप'।

सेसनाग—(हिं. पुं.) देखें 'शेपनाग'।

सेसरंग—(हिं. वि.) श्वेत रंग।

सेसर—(हिं. पुं.) ताश का एक खेल, छल, कपट।

सेसरिया—(हिं. पुं.) छल से दूसरे का धन अपहरण करनेवाला।

सेहत—(अ. स्त्री.) स्वास्थ्य, आरोग्य।

सेहयना—(हिं. क्रि. स.) झाड़ना, बूहारना।

सेहरा—(हिं. पुं.) विवाह का मुकुट, मौर, विवाह के अवसर पर घर के घर पर गाया जानेवाला गीत; (मुहा.) किसी के सिर पर सेहरा बाँधना—दूल्हा बनाया जाना, काम का श्रेय दिया जाना।

सेहरी—(हिं. स्त्री.) छोटी मछली, सहरी।

सेहा—(हिं. पुं.) कुआँ खोदनेवाला।

सेहितान—(हिं. पुं.) खलिहान स्वच्छ करने का कूँचा।

सेही—(हिं. स्त्री.) साही नामक जन्तु

जिसके शरीर पर बड़े-बड़े काँटे होते हैं।

सेहूआ—(हिं. पुं.) एक प्रकार का चर्मरोग जिसमें वक्ष पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं।

सेहूँड़—(हिं. पुं.) यूहर।

सेंगर—(हिं. पुं.) बबूल की फली।

सेंतना—(हिं. क्रि. स.) संचित करना, बटोरना, हाथों से समेटना, सँभालना, सावधानी से अपनी रक्षा में रखना।

सेंतालीस—(हिं. वि.) जो संख्या में चालीस और सात हो; (पुं.) चालीस और सात की संख्या, ४७; —वाँ—(वि.)

जिसका स्थान सेंतालीस पर हो।

सेंतीस—(हिं. वि.) जो संख्या में तीस और सात हो; (पुं.) तीस और सात की संख्या, ३७; —वाँ—(वि.)

जिसका स्थान सेंतीस पर हो।

सेंथी—(हिं. स्त्री.) भाला।

सेंदूर—(सं. वि.) सिन्दूर के रंग का, सिद्धरी।

सेंधव—(सं. पुं.) सेंधा नमक, सिन्धु देश का घोड़ा, सिन्धु देश का राजा जयद्रथ; (वि.) सिन्धु देश में उत्पन्न, समुद्र-संबंधी।

सेंधवी—(सं. स्त्री.) संपूर्ण जाति की एक रागिनी।

सेंहल—(सं. वि.) सिंहल द्वीप-संबंधी।

सें—(हिं. स्त्री.) तत्त्व, सार, शक्ति, लाभ, वृद्धि, बढ़ती; (वि., पुं.) शत, सौ।

सेंकड़ा—(हिं. पुं.) सौ का समूह।

सेंकड़े—(हिं. अव्य.) प्रतिशत।

सेंकड़ों—(हिं. वि.) कई सौ।

सेंकत—(सं. पुं.) बलुआ किनारा, रेतीली जमीन; (वि.) रेतीला, बलुआ।

सेंकतिक—(सं. वि.) रेतीला, बलुआ।

सेंका—(हिं. पुं.) घड़े के आकार का मिट्टी का बड़ा पात्र।

सेंजन—(हिं. पुं.) देखें 'सहिजन'।

सेंतव—(सं. वि.) सेतु-संबंधी।

सेंथी—(हिं. स्त्री.) बरछी, भाला।

सेंढांतिक—(सं. वि.) सिद्धान्त या तत्त्व-संबंधी; (पुं.) सिद्धान्त जानने या माननेवाला, तान्त्रिक।

सेंन—(हिं. स्त्री.) संकेत, इंगित लक्षण, चिह्न, सेना; (पुं.) देखें 'शयन', श्येन।

सेंनपति—(हिं. पुं.) सेनापति।

सेंनभोग—(हिं. पुं.) वह नैवेद्य जो रात्रि के समय मन्दिरों में देवता को चढ़ाया जाता है, शयन-भोग।

सेंना—(हिं. स्त्री.) सेना।

सेंनानिक—(सं. वि.) सेना के अग्र-भाग से संबद्ध।

सेंनापत्य—(सं. पुं.) सेनापति का पद या कार्य; (वि.) सेनापति-संबंधी।

सेंनिक—(सं. पुं.) सेना का सिपाही, फौजी, संतरी; (वि.) सेना-संबंधी;

—ता—(स्त्री.) युद्ध, लड़ाई, सैनिक का कार्य।

सेंनिका—(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का छंद।

सेंनी—(हिं. पुं.) नापित।

सेंनेय—(हिं. वि.) सेना के योग्य।

सेंनेश—(हिं. पुं.) सेनापति।

सेंनेस—(सं. पुं.) देखें 'सेंनेश'।

सेंन्य—(सं. पुं.) सेना, शिविर, छावनी; (वि.) सेना-संबंधी; —नायक—(पुं.)

सेनापति; —पृष्ठ—(पुं.) सेना का पिछला भाग; —वास—(पुं.) छावनी, पड़ाव।

सेंभतिक—(सं. पुं.) सिन्दूर, सेंदुर।

सेंयद—(अ. पुं.) नेता, सरदार, इमाम।

सेंयौ—(हिं. पुं.) स्वामी, पति।

सेंया—(हिं. स्त्री.) देखें 'शय्या'।

सेंरंध्र—(सं. पुं.) गृहदास, घर का भृत्य।

सेंरंध्रिका—(सं. स्त्री.) दासी, टहलनी।

सेंरंध्री—(सं. स्त्री.) अन्तःपुर में रहनेवाली दासी, द्वीपदी का एक नाम।

सेंर—(अ. स्त्री.) भ्रमण।

सेंरिभ—(सं. पुं.) स्वर्ग, आकाश।

सेंल—(हिं. पुं.) देखें 'शैल', जल की वाढ़, स्रोत, बहाव; —कुमारी—(स्त्री.) देखें 'शैल-कुमारी'; —जा—, —मुता—(स्त्री.)

देखें 'शैलजा'।

सेंला—(हिं. पुं.) लकड़ी का छोटा डंडा, मेख, गुल्ली, मुंगरी, चैला, वह छोटा

डंडा जो जुए के छेद में डाला जाता है ।
सैलात्मजा-(हि.स्त्री.) शैलात्मजा, पार्वती ।
सैलानी-(हि. वि.) मनमाना धूमनेवाला, आनन्दी, मनमौजी ।
सैलाव-(फा. पुं.) वाढ़ ।
सैलाबी-(फा. वि.) वाढ़-संबंधी ।
सैली-(हि. स्त्री.) छोटा सैला, चैली ।
सैव-(हि. वि.) देखें 'शैव' ।
सैवाल, सैवाल-(हि. पुं.) देखें 'शैवाल' ।
सैस-(सं. वि.) सीसे का बना हुआ ।
सैसव-(हि. वि., पुं.) देखें 'शैशव' ।
सौं-(हि.स्त्री.) देखें 'सौंह'; (अव्य.) सहित, साथ; (सर्व.) सौ; (प्रत्य.) द्वारा, से ।
सौंच-(हि. पुं.) देखें 'सोच' ।
सौंचर नमक-(हि. पुं.) काला नमक ।
सौंटा-(हि. पुं.) बाँस आदि का सुडौल तथा पतला टुकड़ा, मोटा डंडा, लाठी, भंग-घोंटना, मस्तूल बनाने की लकड़ी; -वरदार-(पुं.) बल्लमवरदार ।
सौंठ-(हि.स्त्री.) सुखाया हुआ अदरक, शूठी ।
सौंठौरा-(हि. पुं.) मेवे, चीनी आदि का बना हुआ एक प्रकार का लड्डू जिसमें सौंठ डाली जाती है, (यह प्रसूता स्त्री को खिलाया जाता है ।)
सौंधा-(सं. वि.) सुगन्धित, सूखी भूमि, मिट्टी के नये पात्र आदि पर पानी पड़ने से निकलनेवाली सुगन्ध के समान; (पुं.) स्त्रियों के सिर के बाल धोने का एक प्रकार का सुगन्धित मसाला, सौंधी सुगन्ध ।
सौंधिया-(हि. पुं.) रोहिष घास ।
सौंधी-(हि. पुं.) एक प्रकार का बढ़िया धान ।
सौंधु-(हि. वि.) देखें 'सौंधा' ।
सौंपना-(हि. क्रि. स.) देखें 'सौंपना' ।
सौंपनिया-(हि. पुं.) स्त्रियों का नाक में पहनने का एक प्रकार का गहना ।
सौंह-(हि.स्त्री.) देखें 'सौंह'; (अव्य.) सामने ।
सौं-(हि. सर्व.) वह; (अव्य.) अतएव, इसलिये; (वि.) समान, भाँति ।
सौंहम्-(सं.) संस्कृत का एक वाक्य जिसका अर्थ है—“वही मैं हूँ”, (वेदान्त के सिद्धान्त के अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है और ब्रह्म संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है ।)
सौंहमस्मि-(सं.) देखें 'सौंहम्' ।
सौंधाना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'सौंधा', निद्रा लेना ।
सौआ-(हि. पुं.) एक प्रकार का सुगन्धित शाक ।

सोई-(हि.स्त्री.) वह गड्ढा जिसमें बरसात या वाढ़ का पानी भर जाता है, डावर; (सर्व.) वही; (अव्य.) इसलिये ।
सोक-(हि. पुं.) देखें 'शोक' ।
सोकन-(हि. पुं.) देखें 'सोखन' ।
सोकना-(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'सोखना', शोक करना ।
सोखता-(हि. पुं.) देखें 'सोखता' ।
सोखन-(हि. वि.) सोखनेवाला; (पुं.) एक प्रकार का जंगली धान ।
सोखना-(हि. क्रि. स.) रस खींच लेना, चूस लेना, पीना ।
सोखाई-(हि. स्त्री.) सोखने की क्रिया या भाव, सोखाने का शुल्क ।
सोख्ता-(हि. पुं.) स्याहीसोख (कागज) ।
सोर्गद-(हि. स्त्री.) सोर्गध, शपथ ।
सोर्गिनी-(हि. वि. स्त्री.) शोक करनेवाली, दुःखिता ।
सोच-(हि. पुं.) सोचने की क्रिया या भाव, चिन्ता, दुःख, पश्चात्ताप ।
सोचना-(हि. क्रि. अ., स.) चिन्ता करना, विचार करना, दुःख करना ।
सोच-विचार-(हि. पुं.) किसी विषय पर युक्तिसंगत रूप से मनन करना ।
सोचाना-(हि. क्रि. स.) विचार कराना, सोचने में प्रवृत्त करना ।
सोचु-(हि. पुं.) देखें 'सोच' ।
सोज-(हि. स्त्री.) सृजने की अवस्था, सृजन, शोथ ।
सोजनी-(फा. स्त्री.) देखें 'सुजनी' ।
सोझ, सोझा-(हि. वि.) सरल, सीधा ।
सोटा-(हि. पुं.) देखें 'सौंटा' ।
सोठ-(हि. स्त्री.) देखें 'सौंठ' ।
सोडा-(अं. पुं.) सज्जी से बना हुआ एक क्षार चूर्ण ।
सोढ-(सं. वि.) सहिष्णु, सहनशील ।
सोढर-(हि. वि.) मूर्ख ।
सोढव्य-(सं. वि.) सहन करने योग्य ।
सोढा-(सं. वि.) क्षमाशील ।
सोत-(हि. पुं.) देखें 'स्रोत', सोता ।
सोता-(हि. पुं.) जल की निरन्तर बहनेवाली छोटी धारा, झरना, नदी की शाखा, नहर ।
सोतिया-(हि. स्त्री.) छोटा सोता ।
सोती-(हि. स्त्री.) छोटा सोता, धारा ।
सोत्कंठ-(सं. वि.) उत्कण्ठा-सहित, लालसा-युक्त ।
सोत्कर्ष-(सं. वि.) उन्नतिशील ।
सोत्सव-(सं. वि.) उत्सव-सहित, प्रफुल्ल, प्रसन्न ।

सोथ-(हि. पुं.) देखें 'शोथ' ।
सोदर-(सं. वि., पुं.) सगा, सहोदर, सगा भाई ।
सोदरा, सोदरी-(सं. स्त्री.) सगी बहन ।
सोद्रेग-(सं. वि.) उद्रेग-युक्त, चंचलित, चिन्तित ।
सोव-(हि. पुं.) ऋण चुकाने की क्रिया, खोज, टोह, पता-ठिकाना, संशोधन ।
सोवक-(हि. पुं.) शोवक, शोवनेवाला ।
सोवन-(हि. पुं.) खोजना, अनुसंधान ।
सोवना-(हि. क्रि. स.) शुद्ध करना, निर्णय करना, दोष हटाना, ठीक करना, खोजना, ऋण चुकाना, जन्म-पत्री आदि पर विचार करना, औषध के लिए सोना, पारा आदि शुद्ध करना ।
सोवना, सोधाना-(हि. क्रि. स.) शुद्ध कराना ।
सोन-(हि. पुं.) भारत की एक प्रसिद्ध नदी का नाम, एक प्रकार का जलपक्षी, 'सोना' का समस्त-पद-रूप; -क्रीकर-(पुं.) एक प्रकार का बड़ा वृक्ष जिसका गोंद औषध में प्रयुक्त होता है; -केला-(पुं.) चंपा केला; -चंपा-(पुं.) पीले रंग का चंपा; -चिरी-(स्त्री.) नदी; -जूही-(स्त्री.) पीली जूही; -भद्र-(पुं.) सोन नदी ।
सोनहला-(हि. वि.) देखें 'सुनहला' ।
सोनहा-(हि. पुं.) कुत्ते की जाति का एक छोटा हिल पशु ।
सोना-(हि. पुं.) पीले रंग की एक प्रसिद्ध बहुमूल्य धातु, सुवर्ण, कोई बहुमूल्य वस्तु, बहुत महंगी और अति सुंदर वस्तु, एक प्रकार का राजहंस, मझोले कद का एक पहाड़ी वृक्ष; (क्रि. अ.) नींद लेना, शयन करना; (मुहा.) सोने का घर मिट्टी होना-घन-वैभव का नाश होना; सोने में धुन लगना-कोई असंभव घटना होना; सोने में सुगंध होना-किसी उत्तम वस्तु में कोई अपूर्व विशेषता होना; -गेरु-(पुं.) अधिक लाल तथा कोमल गेरु; -पाठ-(पुं.) एक प्रकार का ऊँचा वृक्ष जिसके फल, बीज तथा छाल औषधों में प्रयुक्त होते हैं; -पेट-(पुं.) सोने की खान; -मक्खी, -माली-(स्त्री.) एक प्रकार का खनिज पदार्थ ।
सोनार-(हि. पुं.) देखें 'सुनार' ।
सोनित-(हि. पुं.) देखें 'शोणित', सचिरा
सोनी-(हि. पुं.) तुन की जाति का एक वृक्ष, स्वर्णकार, सुनार ।

सोन्माद-(हि. वि.) उन्मादयुक्त ।
 सोपकरण-(सं. वि.) उपकरणयुक्त ।
 सोपत-(हि. पुं.) सुविधा, सुख का प्रबन्ध ।
 सोपप्लव-(सं. पुं.) राहु-ग्रस्त (ग्रहण लगा हुआ) सूर्य और चन्द्रमा ।
 सोपम-(सं. वि.) उपमायुक्त ।
 सोपवास-(सं. वि.) उपवास के साथ ।
 सोपहास-(सं. वि.) उपहास-युक्त ।
 सोपाक-(सं. पुं.) चांडाल, वनौषधि वेचनेवाला ।
 सोपाधि, सोपाधिक-(सं. वि.) उपाधि-युक्त ।
 सोपान-(सं. पुं.) सीढ़ी ।
 सोपानित-(सं. वि.) सीढ़ियों से युक्त ।
 सोपाश्रय-(सं. वि.) उपाश्रय-युक्त ।
 सोपि-(सं. सर्व.) वह भी ।
 सोफता-(हि. पुं.) एकान्त या निर्जन स्थान, रोग में कमी होना ।
 सोफा-(अं. पुं.) गद्दीदार आसन ।
 सोभ-(हि. स्त्री.) देखें 'शोभा' ।
 सोभन-(हि. वि., पुं.) देखें 'शोभन' ।
 सोभना-(हि. क्रि. अ.) शोभित होना, सुंदर लगना ।
 सोभर-(हि. पुं.) सूतिका-गृह, सौरी ।
 सोभा-(हि. स्त्री.) देखें 'शोभा'; -कारी-(वि.) सुंदर, मनोहर ।
 सोभायमान-(हि. वि.) देखें 'शोभायमान' ।
 सोभित-(हि. वि.) देखें 'शोभित' ।
 सोम-(सं. पुं.) स्वर्ग, आकाश, सोमवार, चन्द्रमा, अमृत, यम, वायु, कुवेर, जल, सोम-यज्ञ, आठ वसुओं में से एक, एक वानर का नाम, सोमलता का रस, यज्ञ की सामग्री, स्त्रियों का एक रोग, एक वैदिक देवता; -क-(पुं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम; -कर-(पुं.) चन्द्रमा की किरण; -कांत-(पुं.) चन्द्रकान्त मणि; -ऋतु-(पुं.) सोमयज्ञ; -क्षय-(पुं.) अमा-वस्या; -गर्भ-(पुं.) विष्णु; -ज-(पुं.) बुध ग्रह; -जाजी-(हि. पुं.) सोम-यज्ञ करनेवाला; -दिन-(पुं.) चन्द्रवार; -धारा-(स्त्री.) स्वर्ग; -नाथ-(पुं.) जूनागढ़ राज्य का एक प्राचीन शिव-मंदिर; -पति-(पुं.) इन्द्र; -पा-(वि.) सोमपान करनेवाला; -पान-(पुं.) सोम पीने की क्रिया; -पायी-(वि.) सोमपान करनेवाला; -पुत्र-(पुं.) चन्द्रमा के पुत्र बुध; -प्रदोष-(पुं.) सोमवार को पड़ने-

वाला प्रदोषकृत; -बंधु-(पुं.) कुमुद, सूर्य, बुध; -बेल-(हि. स्त्री.) गुल-चांदनी का पौधा; -भवा-(स्त्री.) नर्मदा नदी; -भू-(पुं.) सोमज, बुध; -मख-(पुं.) सोमयज्ञ; -याग-(पुं.) एक वैवाषिक यज्ञ जिसमें सोमरस पिया जाता था; -याजी-(पुं.) सोम-यज्ञ करनेवाला; -योनि-(पुं.) हरिचन्दन, पीला चन्दन; -रस-(पुं.) सोमलता का रस; -राज-(पुं.) चन्द्रमा; -०सुत-(पुं.) चन्द्रमा का पुत्र बुध; -राजी-(पुं.) बाकुची, काली जोरी, एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में छः वर्ण होते हैं; -राज्य-(पुं.) चन्द्रलोक; -रोग-(पुं.) स्त्रियों का बहुमूत्र रोग; -लोक-(पुं.) चन्द्रलोक; -वंश-(पुं.) चन्द्रवंश; -वंशीय-(वि.) चन्द्रवंश का; -वती अमावस्था-(स्त्री.) सोमवार को पड़नेवाली अमावस्या जो पुण्य तिथि मानी जाती है; -वल्लरि-(स्त्री.) सोमलता; -बल्ली-(स्त्री.) सोमलता, गुडुची, ब्राह्मी, गजपीपल; -वार-(पुं.) चन्द्रमा का वार, चन्द्रवार; -वारी-(हि. स्त्री.) सोमवार-संबंधी; -वीथी-(स्त्री.) चन्द्रमण्डल; -व्रत-(पुं.) सोमवार का व्रत; -संज्ञ-(पुं.) कपूर; -सार-(पुं.) सफेद खैर; -सिधु-(पुं.) विष्णु; -सुत-(पुं.) चन्द्रमा के पुत्र बुध; -सुता-(स्त्री.) नर्मदा नदी ।
 सोमा-(सं. स्त्री.) सोमलता, एक अप्सरा का नाम ।
 सोमाधार-(सं. पुं.) सोम रखने का पात्र ।
 सोमाभा-(सं. स्त्री.) चन्द्रमा की किरणें ।
 सोमालक-(सं. पुं.) पुष्यराज नामक मणि ।
 सोमावती-(सं. स्त्री.) चन्द्रमा की माता का नाम ।
 सोमाष्टमी-(सं. स्त्री.) सोमवार को पड़नेवाली अष्टमी ।
 सोमास्त्र-(सं. पुं.) चन्द्रमा का अस्त्र ।
 सोमीय-(सं. वि.) सोम-संबंधी ।
 सोमेश्वर-(सं. पुं.) काशी में सोम द्वारा प्रतिष्ठित शिवालय, संगीत-शास्त्र के प्रणेता एक प्राचीन कवि का नाम ।
 सोमोद्भव-(सं. वि.) चन्द्रमा से उत्पन्न ।
 सोय-(हि. सर्व.) सो, वही ।
 सोया-(हि. पुं.) देखें 'सोआ' ।
 सोर-(हि. स्त्री.) मूल, जड़; (पुं.) शोर, कोलाहल ।
 सोरठ-(हि. पुं.) गुजरात और दक्षिणी

काठियावाड़ का प्राचीन नाम, इस प्रदेश की राजधानी सूरत, एक रागिनी का नाम; -मल्लार-(पुं.) संपूर्ण जाति का एक राग ।
 सोरठा-(हि. पुं.) अड़तालीस मात्राओं का एक छन्द जिसके पहले और तीसरे चरणों में ग्यारह तथा दूसरे और चौथे चरणों में तेरह मात्राएँ होती हैं ।
 सोरठी-(हि. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 सोरन-(हि. पुं.) सूरन ।
 सोरह-(हि. वि., पुं.) देखें 'सोलह' ।
 सोर(ल)ही-(हि. स्त्री.) सोलह चित्ती कौड़ियाँ जिनसे लोग जुआ खेलते हैं, सोलह कौड़ियों से खेला जानेवाला जुआ ।
 सोरा-(हि. पुं.) शोरा, मिट्टी से निकलने-वाला एक प्रकार का नमक ।
 सोलंकी-(हि. पुं.) क्षत्रियों का एक प्राचीन राजवंश ।
 सोलपोल-(हि. वि.) व्यर्थ, निष्फल ।
 सोलह-(हि. वि.) दस और छः की संख्या का; (पुं.) दस और छः की संख्या, १६; -वाँ-(वि.) जिसका स्थान पन्द्रह के बाद हो; -सिंगार-(पुं.) स्त्रियों का पूरा सिंगार जिसके अन्तर्गत शरीर में उबटन लगाना, स्नान करना, सुंदर वस्त्र पहनना, बाल सँवारना, काजल-लगाना, माँग में सँदुर भरना, महावर लगाना, मस्तक पर तिलक लगाना, चिबुक पर टीका लगाना, मेहँदी लगाना, सुगन्ध लगाना, गहना पहनना, मिस्सी लगाना, पान खाना, ओठोंको लाल करना तथा माला पहनना है ।
 सोलाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'सुलाना' ।
 सोल्लास-(सं. वि., अव्य.) उल्लासयुक्त, आनन्दपूर्वक ।
 सोवज-(हि. पुं.) देखें 'सावज' ।
 सोवड़-(हि. पुं.) देखें 'सौरी' ।
 सोवना-(हि. क्रि. अ.) निद्रा लेना ।
 सोवा-(हि. पुं.) देखें 'सोआ' ।
 सोवाना-(हि. क्रि. स.) देखें 'सुलाना' ।
 सोवैया-(हि. पुं.) सोनेवाला ।
 सोषण-(हि. पुं.) देखें 'शोषण' ।
 सोषना-(हि. क्रि. स.) देखें 'सोखना' ।
 सोषु-(हि. वि.) सोखनेवाला ।
 सोहगी-(हि. स्त्री.) विवाह-संबंध में तिलक चढ़ाने के बाद की एक रीति जिसमें वर के घर से कन्या को गहना, वस्त्र आदि भेजा जाता है, सोहाग की वस्तु ।
 सोहन-(हि. पुं., वि.) शोभन, अच्छा लगने-

वाला; -पपड़ी-(स्त्री.) एक प्रकार की मिठाई जो रेणों के जमे हुए कतरे के रूप में बनाई जाती है; -हलवा-(पुं.) एक प्रकार की मेवा आदि डालकर कतरे के रूप में जमाई हुई मिठाई।
 सोहना-(हिं. क्रि. अ., स.) शोभित होना, सजना, अच्छा लगना, उपयुक्त होना, खेत में उगी हुई घास को काटकर अलग करना, निराना; (पुं.) कसेरों का एक नुकीला उपकरण।
 सोहनी-(हिं. स्त्री.) झाड़ू, बुहारी, एक रागिनी का नाम, खेत की घास सोहने की क्रिया।
 सोहर-(हिं. पुं.) एक प्रकार का लोक-गीत जिसको स्त्रियाँ घर में बच्चा पैदा होने पर गाती हैं; (स्त्री.) सूतिकागृह, सौरी, नाव का पाल खींचने की रस्ती।
 सोहराना-(हिं. क्रि. स.) सहलाना, शरीर पर हाथ फेरना।
 सोहल्य-(हिं. पुं.) मांगलिक गीत, सोहर।
 सोहाइन-(हिं. वि.) सुहावना, सुंदर।
 सोहार्द-(हिं. स्त्री.) खेत में उगी हुई घास उखाड़ने या निकालने का काम, निराई, निराने का वेतन।
 सोहाग-(हिं. पुं.) सुहाग, सौभाग्य।
 सोहागा-(हिं. पुं.) एक प्रसिद्ध क्षार द्रव्य, सुहागा।
 सोहागिन, सोहागिनी-(हिं. स्त्री.) देखें 'सुहागिन'।
 सोहाता-(हिं. वि.) सुहावना, अच्छा।
 सोहाना-(हिं. क्रि. अ.) शोभित होना, सजना, अच्छा लगना, रचना।
 सोहाया-(हिं. वि.) शोभायमान, सुंदर।
 सोहारद-(हिं. पुं.) देखें 'सौहार्द'।
 सोहारी-(हिं. स्त्री.) पूरी।
 सोहाल-(हिं. पुं.) देखें 'सुहाल'।
 सोहावन-(हिं. वि.) सुंदर।
 सोहावना-(हिं. वि.) सुहावना; (क्रि. अ.) देखें 'सुहाना'।
 सोहासित-(हिं. वि.) रुचिर, प्रिय।
 सोहि-(हिं. अव्य.) देखें 'सौह'।
 सोहिनी-(सं. वि. स्त्री.) शोभायमान, सुंदर; (स्त्री.) एक रागिनी का नाम।
 सोहिल-(हिं. पुं.) अगस्त्य नामक तारा जो चन्द्रमा के पास दिखाई पड़ता है।
 सोहिला-(हिं. पुं.) देखें 'सोहला'।
 सोहो, सोहो-(हिं. अव्य.) सम्मुख, सामने।
 सो-(हिं. स्त्री.) सौह; (अव्य.) समान, सा।
 सोधा-(हिं. वि.) अच्छा, उत्तम, उचित।
 सोधाई-(हिं. स्त्री.) अधिकता।

सौचना-(हिं. क्रि. अ.) मल-त्याग करना, पानी से गुदा धोना।
 सौंचर नमक-(हिं. पुं.) सौंचर नमक।
 सौज-(हिं. स्त्री.) देखें 'साज', सामान।
 सौंड-(हिं. पुं.) ओढ़ने का वस्त्र (कंबल आदि)।
 सौतुख-(हिं. पुं.) प्रत्यक्ष वात; (अव्य.) सम्मुख, आँख के सामने।
 सौदना-(हिं. क्रि. स.) कपड़ों को रेह के पानी में भिगोना, सानना, मिलाना।
 सौदर्ज-(हिं. पुं.) देखें 'सौंदर्य'।
 सौंदर्य-(सं. पुं.) सुंदरता; -ता-(हिं. स्त्री.) सौंदर्य।
 सौध-(हिं. स्त्री.) सुगन्ध।
 सौधना-(हिं. क्रि. स.) सुगन्धित करना, वासना।
 सौधा-(हिं. वि.) सोंधा, रुचिकर।
 सौनमक्खी-(हिं. स्त्री.) देखें 'सौनामक्खी'।
 सौफ-(हिं. स्त्री.) इस नाम का पौधा जिसके बीज औषधों तथा मसालों में व्यवहार किये जाते हैं।
 सौफिया, सौफी-(हिं. स्त्री.) सौफ की बनी हुई मदिरा।
 सौरई-(हिं. स्त्री.) साँवलापन।
 सौरना-(हिं. क्रि. अ., स.) सँवरना, याद करना।
 सौह-(हिं. पुं.) शपथ, सौगन्ध; (अव्य.) सम्मुख, सामने।
 सौहन-(हिं. पुं.) देखें 'सोहन'।
 सौही-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार का अस्त्र।
 सौ-(हिं. वि., पुं.) नव्वे और दस (की संख्या), १०० (मुहा.)-की एक वात-सर्वमान्य या उचित वात।
 सौक-(हिं. स्त्री.) सपत्नी, सौत; (पुं.) शौक; (वि.) एक सौ।
 सौकरायण-(सं. पुं.) व्याध, शिकारी।
 सौकर्य-(सं. पुं.) सुविधा, सुभीता, सुकरता, शूकरता, सूअरपन।
 सौकीन-(हिं. वि.) देखें 'शौकीन'।
 सौकीनी-(हिं. स्त्री.) देखें 'शौकीनी'।
 सौकुमार्य-(सं. पुं.) सुकुमारता, कोमलता, यौवन, काव्य का वह गुण जिसमें कटु शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता।
 सौकृत्य-(सं. पुं.) यज्ञ, योग आदि का अनुष्ठान।
 सौक्ष्म-(सं. पुं.) सूक्ष्म का धर्म या भाव।
 सौख-(सं. पुं.) सुख का भाव या धर्म; (हिं. पुं.) शौक।
 सौख्य-(सं. पुं.) सुख, आनंद।
 सौख्यदायी-(सं. वि.) सुख देनेवाला।

सौगंद-(हिं. स्त्री.) शपथ।
 सौगंध-(सं. पुं.) सुगन्ध; (पुं.) सुगन्धित तैल, इत्र आदि; इनका व्यापारी; (हिं. स्त्री.) सौगंद।
 सौगंधक-(सं. पुं.) नीला कमल।
 सौगत-(सं. वि.) सुगत-संबंधी; (पुं.) वृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम।
 सौगम्य-(सं. पुं.) सुगमता।
 सौगरिय-(हिं. पुं.) क्षत्रियों की एक जाति का नाम।
 सौगात-(फा. स्त्री.) इष्ट मित्रों को देने के लिये वस्तु, भेंट।
 सौगाती-(हिं. वि.) उपहार देने योग्य, उत्तम, बढ़िया।
 सौधा-(हिं. वि.) कम मूल्य का।
 सौच-(हिं. पुं.) देखें 'शौच'।
 सौचिक-(सं. पुं.) दरजी, एक वर्णसंकर जाति।
 सौज-(हिं. स्त्री.) उपकरण, सामग्री।
 सौजना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'सजना'।
 सौजन्य-(सं. पुं.) सुजनता, भलमनसी।
 सौजन्यता-(हिं. पुं.) देखें 'सौजन्य'।
 सौजा-(हिं. पुं.) वह पशु या पक्षी जिसका आखेट किया जाय।
 सौत-(हिं. स्त्री.) किसी स्त्री के पति या प्रेमी की दूसरी स्त्री या प्रेमिका।
 सौतिया डह-(हिं. स्त्री.) वह ईर्ष्या जो सपत्नियों में होती है।
 सौतन, सौति, सौतिन-(हिं. स्त्री.) देखें 'सौत'।
 सौतुक-(हिं. अव्य.) सम्मुख, सामने।
 सौतेला-(हिं. वि.) सौत से उत्पन्न, जिसका संबंध सौत से हो।
 सौत्र-(सं. वि.) सूत्र-संबंधी।
 सौत्राभणी-(सं. स्त्री.) एक यज्ञ जो इन्द्र के प्रीत्यर्थ किया जाता है।
 सौत्रिक-(सं. पुं.) जुलाहा।
 सौंदर्य-(सं. पुं.) आतृत्व, भाईचारा; (वि.) सगे भाई का।
 सौदा-(फा. पुं.) खरीद-विक्री, वाणिज्य, मोल की वस्तु, माल।
 सौदागर-(फा. पुं.) सौदा बेचनेवाला, व्यापारी।
 सौदागरी-(हिं. स्त्री.) सौदागर का काम।
 सौदामनी-(सं. स्त्री.) विद्युत्, विजली, एक रागिनी का नाम, एक अप्सरा का नाम।
 सौदामिनी-(सं. स्त्री.) देखें 'सौदामनी'।
 सौदायिक-(सं. पुं.) वह धन आदि जो स्त्री को उसके विवाह के समय उसके माता-

पिता या पति के यहाँ मिलता है, स्त्री-धन ।
 सौध- (सं. पुं.) भवन, चाँदी, हूधिया
 पत्थर; (वि.) सुवा-संबंधी ।
 सौधकार- (सं. पुं.) घर बनानेवाला राज ।
 सौधार- (सं. पुं.) नाटक के चौदह भागों
 में से एक ।
 सौधाल- (सं. पुं.) शिवालय ।
 सौनद- (सं. पुं.) बलदेव का मूसल ।
 सौन- (सं. पुं.) कसाई ।
 सौनक- (हिं. पुं.) देखें 'शौनक' ।
 सौनन- (हिं. स्त्री.) देखें 'सौदन' ।
 सौनिक- (सं. पुं.) मांस बेचनेवाला,
 बहेलिया ।
 सौपना- (हिं. क्रि. स.) देखें 'सौपना' ।
 सौपर्ण- (सं. पुं.) मरकत मणि, पत्रा ।
 सौफियाना- (हिं. वि.) सूफियों का-सा ।
 सौबल- (सं. पुं.) राजा सुबल के पुत्र शकुनि ।
 सौबली- (सं. स्त्री.) सौबल की पुत्री गांधारी ।
 सौविगा- (हिं. स्त्री.) एक प्रकार की
 बुलबुल ।
 सौभ- (सं. पुं.) राजा हरिश्चन्द्र की वह
 कल्पित नगरी जो आकाश में थी, एक
 प्राचीन जनपद का नाम ।
 सौभग- (सं. पुं.) सुख, सुंदरता, आनन्द ।
 सौभद्र- (सं. पुं.) सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यू ।
 सौभरि- (सं. पुं.) एक प्राचीन ऋषि
 जिन्होंने मान्वाता की पचास कन्याओं से
 विवाह किया था ।
 सौभागिनी- (हिं. स्त्री.) सधवा स्त्री,
 सोहागिन ।
 सौभाग्य- (सं. पुं.) अच्छा भाग्य, सुख,
 आनन्द, कुशल, क्षेम, अनुराग, सिन्दूर,
 सोहागा, स्त्री का सधवा होना, सुंदरता,
 ऐश्वर्य, शुभ-कामना, मनोहरता, सफलता;
 -तृतीया- (स्त्री.) भाद्रपद मास की
 शुक्ला तृतीया; -व्रत- (पुं.) फाल्गुन
 शुक्ला तृतीया तिथि का व्रत; -वती-
 (वि., स्त्री.) (वह स्त्री) जिसका पति
 जीवित हो, अच्छे भाग्यवाली; -वान्-
 (वि.) अच्छे भाग्यवाला, सुखी ।
 सौभिक्ष्य- (सं. पुं.) खाद्य पदार्थों की
 प्रचुरता का समय ।
 सौम- (सं. वि.) चन्द्रमा-संबंधी ।
 सौमन- (सं. पुं.) एक प्रकार का अस्त्र ।
 सौमनस- (सं. वि.) सुमन-संबंधी, मनोहर;
 (पुं.) प्रफुल्लता, अनुग्रह, कृपा, एक
 अस्त्र-संहार ।
 सौमनसा- (सं. स्त्री.) जावित्री ।
 सौमनस्य- (सं. पुं.) श्राद्ध में ब्राह्मण के
 हाथ में फूँ देना, आनन्द ।

सौमित्र- (सं. पुं.) सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण ।
 सौमित्रा- (हिं. स्त्री.) देखें 'सुमित्रा' ।
 सौमुख्य- (सं. पुं.) प्रसन्नता ।
 सौम्य- (सं. पुं.) बुध ग्रह, विप्र, ब्राह्मण,
 सोम यज्ञ, पित्त, अग्रहन का महीना,
 साठ संवत्सरो में से एक, सुशीलता,
 मृगशिरा नक्षत्र, हथेली का मध्य भाग;
 (वि.) उज्ज्वल, सुंदर, प्रसन्न, शुभ,
 उत्तर की ओर का, शान्त, चन्द्र-संबंधी;
 -गंधा- (स्त्री.) सेवती; -ता- (स्त्री.)
 शीतलता, ठंडक, उत्तमता, सुंदरता;
 -दर्शन- (वि.) जो देखने में सुंदर हो;
 -वार- (पुं.) बुधवार; -शिला- (स्त्री.)
 विषम वृत्त के दो भेदों में से एक ।
 सौम्या- (सं. स्त्री.) दुर्गा, रुद्रजटा, बड़ी
 मालकंगनी, घूँघची, ब्राह्मी, मोती,
 मृगशिरा नक्षत्र, आर्या छन्द का एक भेद ।
 सौर- (सं. पुं.) सूर्य के पुत्र शनि, बीसवें
 कल्प का नाम, धनिया, सूर्योपासक, सूर्य
 का भक्त; (वि.) सूर्य-संबंधी, सूर्य से
 उत्पन्न ।
 सौरज- (सं. पुं.) धनिया ।
 सौरठवाल- (हिं. पुं.) वैश्यों की एक जाति ।
 सौरत- (सं. वि.) सुस्त या रति-क्रीड़ा-
 संबंधी ।
 सौर-दिवस- (सं. पुं.) एक सूर्योदय से दूसरे
 सूर्योदय तक का समय, साठ दंडों का काल ।
 सौरभ- (सं. पुं.) सुगन्ध, केशर, धनिया,
 एक प्रकार का बढ़िया आम; (वि.)
 सुगन्धयुक्त, खुशबूदार ।
 सौरभक- (सं. पुं.) एक प्रकार का छंद ।
 सौरभित- (सं. वि.) महकनेवाला, सौरभ-
 युक्त ।
 सौरभेय- (सं. पुं.) वृष, साँड़ ।
 सौरभेयी- (सं. स्त्री.) गाय, एक अप्सरा
 का नाम ।
 सौरभ्य- (सं. पुं.) सुगंध, कीर्ति, प्रसिद्धि,
 कुवेर ।
 सौर-मास- (सं. पुं.) वह महीना जो सूर्य
 के किसी राशि में रहने तक माना जाता
 है, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक
 का समय ।
 सौर-वर्ष, सौर-संवत्सर- (सं. पुं.) उतना
 काल जितना सूर्य के मेपादि बारह
 राशियों पर घूम आने में लगता है ।
 सौरसेन- (हिं. पुं.) देखें 'शौरसेन' ।
 सौरसेय- (सं. पुं.) स्कन्द, कार्तिकेय ।
 सौराटी- (सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 सौराष्ट्र- (सं. पुं.) काठियावाड़ का प्राचीन
 नाम, काँसा, एक वर्णवृत्त का नाम; -क-

(पुं.) सौराष्ट्र का रहनेवाला; -मृत्तिका-
 (स्त्री.) गोपीचंदन ।
 सौराष्ट्रिक- (सं. वि.) सौराष्ट्र-संबंधी ।
 सौरास्त्र- (सं. पुं.) एक प्रकार का
 दिव्यास्त्र ।
 सौरि- (सं. पुं.) शनि, हुरहुर का पौधा ।
 सौरिक- (सं. वि.) स्वर्गीय, मद्य-संबंधी ।
 सौरिरत्न- (सं. पुं.) नीलम ।
 सौरी- (हिं. स्त्री.) वह कमरा जिसमें
 स्त्री बच्चा जनती है, प्रसूतिका-गृह;
 (सं. स्त्री.) सूर्य की पत्नी, गाय ।
 सौरिय- (सं. पुं.) सफेद कटसरैया ।
 सौर्य- (सं. वि.) सूर्य-संबंधी; (पुं.) सूर्य
 का पुत्र ।
 सौलभ्य- (सं. पुं.) सुलभता ।
 सौवर्चल- (सं. पुं.) सौचर नमक, सज्जी
 मिट्टी ।
 सौवर्ण- (सं. वि.) सुवर्ण-संबंधी; (पुं.)
 सोने का अलंकार ।
 सौविद- (सं. पुं.) अन्तःपुर का रक्षक,
 कंचुकी ।
 सौवीर- (सं. पुं.) सिन्धु नद के पास का
 एक प्राचीन देश, बेर का फल, रसां-
 जन, सुरमा ।
 सौवीरांजन- (सं. पुं.) सुरमा ।
 सौवीरा- (सं. स्त्री.) संगीत में एक प्रकार
 की मूर्च्छना ।
 सौशील्य- (सं. पुं.) शुद्ध स्वभाव, साधुता ।
 सौश्रिय- (सं. पुं.) ऐश्वर्य, विभव ।
 सौष्ठव- (सं. पुं.) उपयुक्तता, सुडौलपन,
 सुंदरता, शरीर की एक मुद्रा, नाटक का
 एक अंग ।
 सौसन- (फा. पुं.) एक फूल ।
 सौसनी- (फा. पुं.) सौसन के रंग का,
 लाली लिये नीला ।
 सौस्वर्य- (सं. पुं.) सुस्वरता, सुरीलापन ।
 सौह- (हिं. स्त्री.) शपथ; (अव्य.)
 सम्मुख, सामने, आगे ।
 सौहर- (हिं. पुं.) पति ।
 सौहाद- (सं. पुं.) देखें 'सौहाद्य' ।
 सौहाद्य- (सं. पुं.) मित्रता, मत्री ।
 सौहित्य- (सं. पुं.) तृप्ति, सन्तोष, पूर्णता ।
 सौहो- (फा. स्त्री.) एक प्रकार की रती;
 (अव्य.) सामने, आगे ।
 सौहृद- (सं. पुं.) मित्रता, मित्र; (वि.)
 मित्र-संबंधी ।
 स्कंद- (सं. पुं.) कार्तिकेय, कुमार, शरीर,
 राजा, उछलना, पारद, नदी, तट, महा-
 देव, पण्डित, बाल-रोग, विनाश, ध्वंस;
 -क- (पुं.) सैनिक, एक प्रकार का छंद;

-गुप्त-(पुं.) गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध प्राचीन सम्राट्, (इनका शासन-काल ईस्वी सन् ४५० से ४६७ तक माना जाता है); -जननी-(स्त्री.) पार्वती; -जित्-(पुं.) विष्णु का एक नाम; -पुराण-(पुं.) अठारह पुराणों में से एक प्रसिद्ध पुराण का नाम; -फला-(स्त्री.) खजूर; -माता-(स्त्री.) दुर्गा; -षष्ठी-(स्त्री.) चंद्र शुक्ला षष्ठी ।

स्कंदन-(सं.पुं.) कोठा स्वच्छ होना, रेचन, गमन, शोषण ।

स्कंदित-(सं. वि.) पतित, गिरा हुआ ।

स्कंदी-(सं. वि.) उछलने-कूदनेवाला ।

स्कंध-(सं. पुं.) कंधा, मोटे वृक्ष का तना, शाखा, समूह, राजा, सेना का अंग, ग्रन्थ का कोई खण्ड, मार्ग, भंडार, शरीर, युद्ध, आचार्य, सन्धि, आर्या छन्द का एक भेद, दर्शन-शास्त्र के अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध-ये पाँच तत्त्व; -चाप-(पुं.) वहँगी जिसपर बोझ ढोते हैं; -तरु-(पुं.) नारियल का वृक्ष; -वेश-(पुं.) हाथी की गरदन, कंधा; -पथ-(पुं.) पगडंडी; -फल-(स्त्री.) खजूर; -रुह-(पुं.) वट-वृक्ष; -वाह-(पुं.) वह पशु जो कंधे के बल बोझ ढोता हो; -शृंग-(पुं.) भैंसा ।

स्कंधावार-(सं. पुं.) सेना, छावनी, शिविर ।

स्कंध-(सं. पुं.) स्तम्भ, खंभा ।

स्कूल-(अं. पुं.) विद्यालय ।

स्कूली-(हिं. वि.) स्कूल-संबंधी ।

स्कू-(अं. पुं.) वह कील जो घुमाकर लोहे, लकड़ी आदि में जड़ी जाती है ।

स्खलन-(सं. पुं.) पतन, गिरना ।

स्खलित-(सं. वि.) गिरा हुआ, विचलित, फिसला हुआ, सरका हुआ, लड़खड़ाया हुआ, क्षरित, टपका हुआ ।

स्टेशन-(अं. पुं.) रेलगाड़ी का पड़ाव या विराम-स्थल ।

स्तंब-(सं. पुं.) गुल्म, घास की आंटी ।

स्तंबक-(सं. पुं.) गुच्छा ।

स्तंबकार-(सं. पुं.) गुच्छा बनानेवाला ।

स्तंबहनन-(सं. पुं.) घास करने की खुरपी ।

स्तंबी-(सं. स्त्री.) घास करने की खुरपी ।

स्तंभ-(सं. पुं.) खंभा, धूनी, प्रतिबन्ध, रूकावट, जड़ता, पेड़ का तना, अभिमान, काव्य के सांस्कृतिक भावों में से एक ।

स्तंभक-(सं. वि.) रोकनेवाला; (पुं.) खंभा, धूनी ।

स्तंभकर-(सं. वि.) रोकनेवाला ।

स्तंभता-(सं. स्त्री.) जड़ता ।

स्तंभन-(सं. पुं.) अवरोध, रूकावट, स्थिरीकरण, वीर्य आदि के स्खलन में विलंब, शीघ्र वीर्यपात रोकने की औषध, जड़ीकरण, किसी को चेष्टा या शक्ति को रोकने की तान्त्रिक विधि, मल का अव-रोध, कामदेव के पाँच वाणों में से एक ।

स्तंभनी-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का इन्द्रजाल ।

स्तंभनीय-(सं. वि.) स्तंभन करने योग्य ।

स्तंभनवृत्ति-(सं. स्त्री.) प्राणायाम में साँस रोकने का कार्य ।

स्तंभिका-(सं. स्त्री.) छोटा खंभा, खँभिया ।

स्तंभित-(सं. वि.) जड़ीभूत, निश्चल, स्थिर, निवारित, रोका हुआ ।

स्तंभिनी-(सं. स्त्री.) योग के अनुसार चित्त-वृत्तियों में से एक ।

स्तंभी-(सं. वि.) रोकनेवाला ।

स्तन-(सं. पुं.) स्त्रियों या मादा पशुओं की छाती जिसमें दूध रहता है, कुच; -दात्री-(स्त्री.) छाती का दूध पिलानेवाली; -पान-(पुं.) स्तन का दूध पीना या पिलाना; -पायी-(वि.) जो माता के स्तन का दूध पीता हो; -मुख-(पुं.) स्तन का अग्र-भाग, चूंची ।

स्तनित-(सं. वि.) ध्वनित, गर्जन करता हुआ ।

स्तन्यप-(सं. पुं.) दूध पीनेवाला बच्चा ।

स्तब्ध-(सं. वि.) स्तंभित, स्थिर, दृढ़, मंद, धोमा, अभिमानी, हठी, मूर्च्छित, गतिहीन; -कर्ण-(वि.) बहरा; -ता-(स्त्री.) स्थिरता, दृढ़ता, जड़ता; -पाद-(वि.) जिसके पैर जकड़ गये हों; -नति-(वि.) मंदबुद्धि ।

स्तर-(सं. पुं.) सतह, तह, परत, शय्या, सेज, भ्रूम-शास्त्र के अनुसार विभिन्न कालों में बनी हुई भूमि की परतें ।

स्तरण-(सं. पुं.) फैलाने की क्रिया, विछाना, स्तर बनना ।

स्तरणीय-(सं. वि.) फैलाने योग्य ।

स्तरु-(सं. पुं.) वैरी, शत्रु ।

स्तर्य-(सं. पुं.) फैलाने या विखेरने योग्य ।

स्तव-(सं. पुं.) प्रशंसा, स्तोत्र, स्तुति, गाना ।

स्तवक-(सं. पुं.) फूलों का गुच्छा, स्तोत्र, ढेर, समूह, पुस्तक का अध्याय, परिच्छेद ।

स्तवन-(सं. पुं.) स्तुति ।

स्तवनीय-(सं. वि.) स्तुति करने योग्य ।

स्तवरक-(सं. पुं.) वेष्टन, घेरा ।

स्तवितव्य-(सं. वि.) प्रशंसा के योग्य, स्तवनीय ।

स्तविता-(सं. वि.) स्तुति करनेवाला ।

स्तवेय्य-(सं. पुं.) इन्द्र ।

स्तव्य-(सं. वि.) स्तुति करने योग्य ।

स्ताव-(सं. पुं.) गुणगान ।

स्तावक-(सं. वि.) गुणगान करनेवाला ।

स्ताव्य-(सं. वि.) प्रशंसा के योग्य ।

स्तमित-(सं. वि.) निश्चल, स्थिर, सन्तुष्ट, प्रसन्न, मीमांसा; (पुं.) भार्ता ।

स्तीर्ण-(सं. वि.) विस्तीर्ण, फैलाया हुआ ।

स्तुत-(सं. वि.) प्रशंसित, स्तुति किया हुआ, कीर्तित; (पुं.) स्तुति, प्रशंसा ।

स्तुति-(सं. स्त्री.) गुणकीर्तन, प्रशंसा; -पाठक-(पुं.) चारण, माट; -वाद-(पुं.) गुणगान; -वादक-(वि.) प्रशंसा करनेवाला, प्रशंसक, खुशामदी; -व्रत-(पुं.) स्तुति-पाठक ।

स्तुत्य-(सं. वि.) प्रशंसनीय, स्तुति के योग्य

स्तुत्या-(सं. स्त्री.) गोपीचन्दन ।

स्तुनक-(सं. पुं.) छाग, बकरा ।

स्तूप-(सं. पुं.) मिट्टी आदि का ढेर, ऊँचा ढूह या टीला, छाजन में लगी हुई सब से बड़ी धरन, चिता, ईट-पत्थर आदि का बना हुआ वह ऊँचा टीला जिसके नीचे बुद्ध या किसी बौद्ध महात्मा की हड्डी आदि गाड़कर रखी गई हो ।

स्तेन-(सं. पुं.) चोर, एक प्रकार का सुगन्धित द्रव्य ।

स्तेम-(सं. पुं.) गीलापन ।

स्तेय-(सं. पुं.) चौर्य, चोरी ।

स्तेयी-(सं. पुं.) सुतार, चूहा ।

स्तोक-(सं. पुं.) चातक, पपीहा, बूंद; (वि.) थोड़ा, कम ।

स्तोतव्य-(सं. वि.) स्तुति के योग्य ।

स्तोता-(सं. पुं, वि.) स्तुति करनेवाला ।

स्तोत्र-(सं. पुं.) कविता के रूप में किसी देवता का वर्णन, स्तुति ।

स्तोत्रीय-(सं. वि.) स्तोत्र-संबंधी ।

स्तोभ-(सं. पुं.) सामवेद का एक अंग ।

स्तोभ्य-(सं. पुं.) मस्तक, थन, अन्न, लोहे का नुकीला डंडा, समूह, राशि, स्तुति, प्रार्थना, यज्ञ करनेवाला, एक प्रकार की ईट ।

स्तोम्य-(सं. वि.) प्रार्थना करने योग्य ।

स्त्यन-(सं. पुं.) धनत्व, अमृत; (वि.) कड़ा, घना, चिकना ।

स्त्येन-(सं. पुं.) चोर ।

स्त्री-(सं. स्त्री.) नारी, पत्नी, प्रियंगु लता, एक वृत्त का नाम; -करण-(पुं.) संभोग, मैथुन; -काम-(वि.) स्त्री की कामना करनेवाला; -कोश-

(पुं.) खड्ग, तलवार; -क्षीर-(पुं.) स्त्री के स्तन का दूध; -गमन-(पुं.) संभोग, मैथुन; -गवी-(स्त्री.) धनु, गाय; -गृह-(स्त्री.) दीक्षा देनेवाली स्त्री; -घातक-(वि.,पुं.) स्त्री की हत्या करनेवाला; -चंचल-(वि.) कामी, लंपट; -चौर-(पुं.) स्त्री को चुरानेवाला; -जननी-(स्त्री.) वह स्त्री जो केवल कन्या उत्पन्न करती है; -जित्-(वि.) स्त्री के वशीभूत; -त्व-(पुं.) स्त्री का धर्म; -वन-(पुं.) वह सम्पत्ति या वन जिस पर स्त्री का पूर्ण अधिकार हो; -धर्म-(पुं.) आर्तव, स्त्री का रजस्वला होना, मैथुन, स्त्रियों का शुभ कर्म; -धर्मिणी-(स्त्री.) रजस्वला स्त्री; -धूर्त-(पुं.) स्त्रियों को छलनेवाला पुरुष; -ध्वज-(स्त्री.) जिसमें स्त्रियों के चिह्न हों; -निबंधन-(पुं.) गृहस्थी का कार्य जो स्त्रियाँ करती हैं; -एर-(पुं.) कामी, लंपट; -पुर-(पुं.) अन्तःपुर; -पुष्प-(पुं.) आर्तव; -प्रसंग-(पुं.) संभोग, मैथुन; -प्रिय-(पुं.) आम का पेड़, अशोक; -भूषण-(पुं.) केतकी, केवड़ा; -मंत्र-(पुं.) वह मन्त्र जिसके अन्त में स्वाहा शब्द हो, स्त्री की राय; -रंजन-(पुं.) तांबूल; -रत्न-(पुं.) उत्तम नारी, लक्ष्मी; -राज्य-(पुं.) वह देश जहाँ स्त्रियों का राज्य हो; -रोग-(पुं.) स्त्रियों का योनि-संबंधी रोग; -लंपट-(वि.) विषयी, कामी; -लिंग-(पुं.) व्याकरण में स्त्रीवाचक शब्द, भग, योनि; -व्रत-(पुं.) अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी स्त्री की कामना न करना; -संग-(पुं.) स्त्री-समागम; -संग्रहण-(पुं.) व्यभिचार, बलात्कार; -संसर्ग-(पुं.) मैथुन; -संभोग-(पुं.) मैथुन; -सेवा-(स्त्री.) मैथुन; -स्वभाव-(पुं.) अन्तःपुर का रक्षक; -हत्या-(स्त्री.) स्त्रा का वध।

स्त्रंण-(सं.वि.) स्त्री-संबंधी, स्त्री के योग्य।
 स्वर्णिल-(सं. पुं.) यज्ञ के लिये स्वच्छ की हुई भूमि, मिट्टी का ढेर, सीमा।
 स्थ-(सं.प्रत्य.) उपस्थित, स्थित, (इन अर्थों में यह शब्दों के अन्त में जोड़ा जाता है।)
 स्थकित-(सं. वि.) शिथिल, थका हुआ।
 स्थग-(सं. पुं.) धूर्त, छली।
 स्थगन-(सं.पुं.) स्थगित करना, गोपन।
 स्थगित-(सं. वि.) गुप्त, छिपा हुआ, रोका हुआ, मुलतवी किया हुआ।

स्थगु-(सं. पुं.) पीठ पर का कूवड़।
 स्थपति-(सं. पुं.) राजा, शासक, अन्तःपुर का रक्षक, भवन-निर्माण कला में निपुण, रथ हाँकनेवाला।
 स्थपनी-(सं. स्त्री.) दोनों भौंहों के बीच का स्थान।
 स्थपुट-(सं. वि.) कुब्ज, कुवड़ा; (पुं.) कूवड़।
 स्थल-(सं. पुं.) भूभाग, भूमि, स्थान, जगह, अवसर, पुस्तक का विशिष्ट अंश या परिच्छेद; -कंद-(पुं.) जमीकंद; -कमल-(पुं.) कमल के आकार का एक फूल जो भूमि पर होता है; -काली-(स्त्री.) दुर्गा की एक सहचरी का नाम; -कुमुद-(पुं.) कनेर; -ग-(वि.) भूमि पर रहनेवाला; -चर-(वि.) स्थल पर रहने या विचरनेवाला; -चारी-(वि.) स्थलचर; -ज-(वि.) भूमि से उत्पन्न; -नौरज-(पुं.) स्थल-कमल; -पथ-(पुं.) सड़क, मार्ग; -पद्म-(पुं.) शतपत्र, तमालक, स्थल-कमल; -पिंडा-(स्त्री.) पिंडखजूर; -मंजरी-(स्त्री.) अपामार्ग, लटजीरा; -मकंद-(पुं.) करौंदा; -युद्ध-(पुं.) भूमि पर होनेवाली लड़ाई; -विहंग-(पुं.) भूमि पर विचरनेवाला पक्षी; -शृगाट-(पुं.) गोखरू।
 स्थलारविन्द-(सं. पुं.) स्थल-कमल।
 स्थली-(सं. स्त्री.) जलशून्य भूमि, ऊँची-नीची भूमि, स्थान।
 स्थलीय-(सं. वि.) स्थानीय, स्थल-संबंधी।
 स्थलेरुहा-(सं. स्त्री.) घृतकुमारी, धीकुआर।
 स्थलेशय-(सं. पुं.) कुरंग, हरिन।
 स्थवि-(सं. पुं.) तन्तुवाय, जुलाहा, स्वर्ग, अग्नि।
 स्थविर-(सं. पुं.) ब्रह्मा, वृद्ध (व्यक्ति), बुद्धा, मिश्रक, कदम्ब; (वि.) अचल, वृद्ध।
 स्थविरा-(सं. स्त्री.) वृद्धी स्त्री।
 स्थविष्ठ-(सं.वि.) बहुत स्थूल या मोटा
 स्थार्इ-(हिं. वि.) देखें 'स्थायी'।
 स्थाणु-(सं. पुं.) शिव, महादेव, ब्रह्मा, एक प्रकार का अस्त्र, वृक्ष का तना, खंभा, धूनी; -तीर्थ-(पुं.) थानेश्वर नामक तीर्थ; -रोग-(पुं.) घोड़ों का एक प्रकार का रोग।
 स्थातव्य-(सं.वि.) ठहरने या रहने योग्य।
 स्थान-(सं. पुं.) स्थिति, ठहराव, टिकाव, ठौर, भूमि-भाग, मैदान, वेदी, डेरा, पद, राज्य, देश, देवालय, गढ़, अवसर,

अवस्था, कारण, नियुक्ति का पद, किसी ग्रन्थ का परिच्छेद; -क-(पुं.) नगर, पेड़ का थाला, नाचने में एक प्रकार की मुद्रा; -चंचला-(स्त्री.) वनतुलसी; -चितक-(पुं.) सेना के पड़ाव का प्रवन्ध करनेवाला; -च्युत-(वि.) अपने स्थान से गिरा हुआ, अपने पद से हटाया हुआ; -त्याग-(पुं.) स्थान का छोड़ देना; -पाल-(पुं.) स्थान विशेष का रक्षक; -भंग-(पुं.) देखें 'स्थानच्युति'; -भूमि-(स्त्री.) रहने का ठौर; -भ्रष्ट-(वि.) स्थानच्युत; -मग-(पुं.) मगर, कछुआ; -विद्-(वि.) स्थान का जानकार; -स्थ-(वि.) जो अपने स्थान पर स्थिर हो।
 स्थानांतर-(सं. पुं.) दूसरा स्थान।
 स्थानांतरित-(सं. वि.) एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ या नियुक्त।
 स्थानाध्यक्ष-(सं. पुं.) किसी स्थान का रक्षक।
 स्थानापन्न-(सं. वि.) दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करनेवाला।
 स्थानिक-(सं. वि.) स्थानीय; (पुं.) स्थान का रक्षक, मन्दिर का प्रबंधक।
 स्थानी-(सं. वि.) उपयुक्त, उचित, स्थायी, ठहरनेवाला।
 स्थानीय-(सं. वि.) स्थानस्थ, स्थान-संबंधी, स्थान के योग्य।
 स्थानेश्वर-(सं. पुं.) कुरुक्षेत्र का थानेश्वर नामक स्थान।
 स्थापक-(सं. वि.) स्थापित करनेवाला, संस्थापक; (पुं.) देवमूर्ति बनानेवाला, गिस्वी रखनेवाला, सूत्रधार का सहकारी।
 स्थापत्य-(सं. पुं.) अन्तःपुर का रक्षक, भवननिर्माण, वास्तु-कला; -वेद-(पुं.) चार उपवेदों में से एक।
 स्थापन-(सं. पुं.) प्रतिपादन, निरूपण, रक्षा का उपाय, रोकने की विधि, नया काम आरंभ करना, खड़ा करना, बैठाना, जमाना, स्थापित करना (संस्था आदि), सिद्ध करना, समाधि।
 स्थापना-(सं. स्त्री.) स्थापन, प्रतिष्ठित करना, बैठाना, सिद्ध करना।
 स्थापनिक-(सं.वि.) स्थापित किया हुआ।
 स्थापनीय-(सं.वि.) स्थापित करने योग्य।
 स्थापित-(सं. वि.) जिसकी स्थापना की गई हो, निर्दिष्ट, व्यवस्थित, निश्चित, प्रतिष्ठित, रक्षित।

स्थाप- (सं. पुं.) आधार, पात्र ।
स्थापिता, स्थापित्व- (सं. स्त्री., पुं.)
स्थापनी होने का भाव, स्थिरता, दृढ़ता,
टिकाव, ठहराव ।

स्थायी- (सं. वि.) स्थिर रहनेवाला,
ठहरनेवाला, टिकनेवाला, विश्वस्त; (पुं.)
साहित्य में वह भाव जिसकी स्थिति
सर्वदा मन में बनी रहती है; -भाव-
(पुं.) साहित्य के भाव जो संख्या में नौ
हैं, यथा-रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह,
भय, निन्दा, विस्मय और निर्वेद;
-समिति- (स्त्री.) कुछ निदिष्ट काल तक
किसी सभा का संचालन करनेवाली
कार्यकारिणी सभा ।

स्थाल- (सं. पुं.) थाल, परात, थाली ।
स्थालक- (सं. पुं.) पीठ की रीढ़ ।
स्थाली- (सं. स्त्री.) मिट्टी की कटोरी,
हँडिया; -पाक- (पुं.) आहुति के
लिये दूध में पकाया हुआ चावल या
जौ; -पुलाक-न्याय- (पुं.) समान स्थिति
में रहनेवाली वस्तुओं में से एक की
परीक्षा करके अन्य वस्तुओं की स्थिति
आदि का अनुमान कर लेने की क्रिया;
-वृक्ष- (पुं.) अश्वत्थ, पीपल ।

स्थावर- (सं. पुं.) पर्वत, धनुष की डोरी,
अचल सम्पत्ति; (वि.) एक ही स्थान में
रहनेवाला, स्थायी; -राज- (पुं.)
हिमालय; -विष- (पुं.) स्थावर पदार्थों
में होनेवाला विष ।

स्थावरि- (सं. पुं.) वृद्धावस्था, बुढ़ापा ।
स्थित- (सं. वि.) ठहरा हुआ, टिका
हुआ, रहनेवाला, विद्यमान, बसा हुआ,
लगा हुआ, निश्चल, स्थिर, खड़ा हुआ,
अपनी प्रतिज्ञा पर अटल; -धी- (वि.)
जिसका चित्त या बुद्धि सर्वदा स्थिर
रहे; -प्रज्ञ- (वि.) समस्त विकारों से
रहित, आत्मसन्तोषी ।

स्थिति- (सं. स्त्री.) ढंग, पद, अस्तित्व,
आकृति, स्थिरता, संयोग, ठहरने का
स्थान, निवृत्ति, नियम, पालन, सीमा,
मर्यादा, निवास, अवस्था, दशा;
-स्थापक- (पुं.) किसी वस्तु का
अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करना,
लचीलापन; (वि.) लचीला, सहज
में झुकनेवाला; -स्ता- (स्त्री.)
लचीलापन ।

स्थिर- (सं. पुं.) वृक्ष, पर्वत, मोक्ष, ज्योतिष
में एक योग का नाम, साँड़, स्कन्द का
एक अनुचर, एक प्रकार का छन्द; (वि.)
निश्चल, गतिहीन, दृढ़, अचल, शान्त,

स्थायी, निश्चित; -कर्मा- (वि.) दृढ़ता
से काम करनेवाला; -गंध- (पुं.)
चम्पा; -चित्त- (वि.) जिसका मन
स्थिर या दृढ़ हो; -च्छद- (पुं.)
भोजपत्र; -च्छाय- (वि.) छायाप्रद
वृक्ष; -जिह्व- (पुं.) मछली; -जीविता-
(स्त्री.) सेमल का वृक्ष; -जीवी-
(वि.) दीर्घायु; -ता- (स्त्री.), -त्व-
(पुं.) दृढ़ता, वैर्य; -दंष्ट्र- (पुं.)
सर्प; -पत्र- (पुं.) हिताल वृक्ष;
-पुष्प- (पुं.) चम्पा का वृक्ष;
-फला- (स्त्री.) कूष्मांड की लता;
-बुद्धि- (वि.) दृढ़चित्त, जिसका
मन स्थिर हो; -मति- (स्त्री.) स्थिर-
बुद्धि; -मद- (पुं.) मयूर, मोर;
-यौवन- (पुं.) विद्याघर; -राग-
(पुं.) दृढ़ प्रेम; -नाच्- (वि.)
सत्यप्रतिज्ञ; -श्री- (वि.) जिसकी
सम्पत्ति स्थायी हो ।

स्थिरा- (सं. स्त्री.) पृथ्वी, दृढ़ चित्तवाली
स्त्री ।

स्थिरायु- (सं. पुं.) चिरंजीवी, दीर्घजीवी ।

स्थूण- (सं. पुं.) एक वृक्ष का नाम ।

स्थूणा- (सं. स्त्री.) खंभा, धूनी, वृक्ष-
स्तम्भ, निहाई ।

स्थूल- (सं. वि.) असूक्ष्म, मोटा, मूर्ख,
जिसका तल समान न हो; (पुं.)
कटहल, शिव के एक गण का नाम;

-रुंद- (पुं.) सूरन, ओल; -कणा- (स्त्री.)
संगरैला; -चाप- (पुं.) रुई धुनने की
धुनकी; -ता- (स्त्री.), -त्व- (पुं.)

मोटापन, भारीपन, मूर्खता, असूक्ष्मता;

-ताल- (पुं.) हिताल; -दर्भा- (स्त्री.)
मूँज नामक घात; -दर्शक- (पुं.) जिस

यन्त्र की सहायता से सूक्ष्म वस्तु बड़ी
दिखाई पड़ती है; -दला- (स्त्री.)

धीकुआर; -नाल- (पुं.) बड़ा नरकट;

-नास- (पुं.) शूकर, सूअर; -नासिक-
(वि.) जिसकी नाक बड़ी और

मोटी हो; (पुं.) सूअर; -पट- (पुं.)
मोटा कपड़ा; -पत्र- (पुं.) दमनक,

दौना; -पाद- (पुं.) फीलपाँव रोग से
ग्रस्त; -पुष्प- (पुं.) अगस्त्य का वृक्ष;

-फला- (स्त्री.) शाल्मली; -भाव-
(पुं.) असूक्ष्म भाव; -मंजरी-
(स्त्री.) अपामार्ग, चिचड़ा; -मरिच-

(पुं.) शीतलचीनी; -मुख- (वि.) चौड़े
मुखवाला; -मूल- (पुं.) बड़ी मूली;

-रोग- (पुं.) अधिक मोटा होने का
रोग; -लक्ष- (वि., पुं.) बड़ा दानी,

विद्वान्, पण्डित; -रक्षिता- (स्त्री.)
दानशीलता, पाण्डित्य; -वृक्ष- (पुं.)
मौलसिरी का पेड़; -शाटक- (पुं.)
मोटा कपड़ा; -शालि- (पुं.) एक प्रकार
का मोटा चावल; -शिवी- (स्त्री.)
सफेद सेम; -शिर- (वि.) बड़े मस्तक-
वाला; -स्कंध- (पुं.) बड़हर; -हस्त-
(पुं.) हाथी की सूँड़ ।

स्थूलंग- (सं. वि.) मोटे शरीरवाला ।

स्थूलान्न- (सं. पुं.) बड़ी आँत ।

स्थूला- (सं. स्त्री.) गजपीपल, बड़ी
इलायची ।

स्थूलाक्ष- (सं. पुं.) खर का साथी एक
राक्षस ।

स्थूलास्य- (सं. पुं.) सर्प, साँप; (वि.)
बुड़े मुँहवाला ।

स्थैर्य- (सं. पुं.) स्थिर होने का भाव,
स्थिरता ।

स्थौल्य- (सं. पुं.) स्थूल होने का भाव,
स्थूलता ।

स्नपन- (सं. पुं.) नहाने की क्रिया ।

स्नपित- (सं. वि.) नहाया हुआ ।

स्नात- (सं. वि.) जिसने स्नान किया हो,
नहाया हुआ; (पुं.) स्नातक ।

स्नातक- (सं. पुं.) वह जिसने ब्रह्मचर्य
व्रत के समाप्त होने पर गृहस्थाश्रम

में प्रवेश किया हो; किसी विश्वविद्यालय
की शिक्षा-समाप्ति के बाद उपाधि से

मंडित व्यक्ति ।

स्नातव्य- (सं. वि.) नहाने योग्य ।

स्नान- (सं. पुं.) शरीर को स्वच्छ तथा
शिथिलता दूर करने के लिये इसे जल से

धोना, मृत्ति को जल से धोना, अवगाहन;

-कलश- (पुं.) वह घड़ा जिसमें नहाने
का पानी रखा हो; -गृह- (पुं.) वह

कोठरी जिसमें स्नान किया जाता हो;

-विधि- (स्त्री.) स्नान का नियम;

-वेश्म- (पुं.) स्नानगृह; -शाला-
(स्त्री.) स्नानगृह ।

स्नानांबु- (सं. पुं.) स्नान करने का जल ।

स्नानीय- (सं. वि.) नहाने योग्य ।

स्नानोदक- (सं. पुं.) स्नान करने का जल ।

स्नायविक- (सं. वि.) स्नायु-संबंधी ।

स्नायी- (सं. वि.) स्नान करनेवाला ।

स्नायु- (सं. स्त्री.) शरीर की रक्त-
वाहिनी नस, सिरा, नाड़ी; -रोग-
(पुं.) नहरुआ नामक रोग ।

स्निग्ध- (सं. पुं.) तेल, मोम, गंधा-
विरोजा, दूध पर की मलाई; (वि.)
शीतल, ठंडा, तेल लगा हुआ, चिकना,

तैलयुक्त; -कंदा-(स्त्री.) कंदली;
-च्छद-(पुं.) वरगद का वृक्ष; -जीरक-
(पुं.) ईसवगोल; -तंडुल-(पुं.) साठी
धान; -त्ता-(स्त्री.) चिकनापन,
शीतलता; -पर्णी-(स्त्री.) पिठवन;
-बीज-(पुं.) ईसवगोल; -मज्जक-
(पुं.) वादाम।

स्निघा-(सं. स्त्री.) मज्जा, अस्थिसार।

स्नुषा-(सं. स्त्री.) पुत्रवधू, लड़के की स्त्री।

स्नुही-(सं. स्त्री.) थूहड़ का पौधा।

स्नेह-(सं. पुं.) प्रेम, प्यार, चिकना पदार्थ

(तेल, मलाई आदि), कोमलता, एक

राग का नाम; -कुंभ-(पुं.) तेल का

घड़ा; -पात्र-(पुं.) प्रेमपात्र, जिससे प्रेम

किया जाय; -पान-(पुं.) कुछ विशिष्ट

रोगों में घी, तेल आदि पीने की क्रिया;

-फल-(पुं.) तिल; -बीज-(पुं.)

चिरींजी; -वृक्ष-(पुं.) देवदार।

स्नेहन-(सं. पुं.) शरीर में तेल लगाना,

कफ, मक्खन।

स्नेहित-(सं. वि.) चिकना, तेल लगाया

हुआ।

स्नेही-(हिं. पुं.) मित्र, वन्धु, चित्रकार;

(वि.) स्नेहयुक्त।

स्पंद-(सं. पुं.) किसी वस्तु का धीरे-

धीरे हिलना या कांपना, नसों आदि

का फड़कना।

स्पंदन-(सं. पुं.) देखें 'स्पंद'।

स्पंदिनी-(सं. स्त्री.) रजस्वला स्त्री।

स्पंदी-(सं. वि.) कांपने या फड़कनेवाला।

स्पर्धा-(सं. स्त्री.) संघर्ष, रगड़, साहस,

ईर्ष्या, साम्य, बराबरी का होड़।

स्पर्षी-(सं. वि.) स्पर्ष करनेवाला।

स्पर्श-(सं. पुं.) छूना, छूने से होनेवाला

बोध, पीड़ा, कष्ट, आपत्ति, वायु, एक

प्रकार का रतिवन्ध, वर्गाक्षर,

व्याकरण में उच्चारण-भेद से 'क' से

'म' तक के पचीस व्यंजनवर्ण, ग्रहण में

छाया का आरंभ होना; -कोण-(पुं.)

रेखागणित में वह कोण जो किसी स्पर्श-

रेखा से बनता है; -ज, -जन्य-(वि.)

स्पर्श से उत्पन्न, संक्रामक, छुनहा;

-दिशा-(स्त्री.) वह दिशा जिधर से

ग्रहण की छाया का स्पर्श हुआ हो;

-मणि-(पुं.) पारस पत्थर; -रसिक-

(पुं.) कामुक, लम्पट; -रेखा-(स्त्री.)

गणित में वह सीधी रेखा जो किसी

वृत्त की परिधि के किसी एक बिन्दु को

स्पर्श करती हुई मीची जाय; -लज्जा-

(स्त्री.) लज्जानु नामक लता।

स्पर्शनैन्द्रिय-(सं. पुं.) स्पर्श करने या

छूने की इन्द्रिय।

स्पर्शा-(सं. स्त्री.) कुलटा, छिनाल स्त्री।

स्पर्शाक्रामक-(सं. वि.) स्पर्श या संसर्ग

से उत्पन्न होनेवाला, संक्रामक।

स्पर्शानंदा-(सं. स्त्री.) अप्सरा।

स्पर्शास्पर्श-(सं. पुं.) छूने या न छूने का

विचार, छूतछात।

स्पर्शा-(सं. वि.) छूनेवाला।

स्पर्शैन्द्रिय-(सं. पुं.) वह इन्द्रिय जिससे

स्पर्श का ज्ञान होता है, त्वचा।

स्पर्शांपल-(सं. पुं.) पारस पत्थर।

स्पष्ट-(सं. वि.) जिसके समझने या देखने

में कोई कठिनता न हो, व्यक्त, प्रत्यक्ष;

-कथन-(पुं.) वह कथन जिसमें किसी

दूसरे की कही हुई बात ठीक उसी रूप

में कही जाती है जिस रूप में वह उसके

मुँह से निकली हो; -तथा-(अव्य.)

स्पष्ट रूप से; -त्ता-(स्त्री.) स्पष्ट

होने का भाव; -वक्ता-(पुं.) ठीक-ठीक

या साफ-साफ कहनेवाला; -वादी-

(पुं.) बिना पक्षपात के बोलनेवाला,

स्पष्टवक्ता।

स्पष्टीकरण-(सं. पुं.) स्पष्ट करने की क्रिया।

स्पृक्का-(सं. स्त्री.) लजाधुर लता, ब्राह्मी।

स्पृश-(सं. वि.) स्पर्श करनेवाला।

स्पृश्य-(सं. वि.) स्पर्श करने या छूने योग्य।

स्पृष्ट-(सं. वि.) स्पर्श किया हुआ।

स्पृहणीय-(सं. वि.) वांछनीय, जिसके

लिये स्पृहा या अभिलाषा की जाय।

स्पृहा-(सं. स्त्री.) वांछा, कामना,

अभिलाषा।

स्पृही-(सं. वि.) अभिलाषा करनेवाला।

स्फटिक-(सं. पुं.) एक प्रकार का काँच

के समान पारदर्शक पत्थर, बिल्लौर,

फिटकीरी, सूर्यकान्त मणि; -विष-(पुं.)

दाहमोच नामक विष।

स्फटिका-(सं. स्त्री.) फिटकीरी।

स्फटिकाभ्र-(सं. पुं.) कपूर।

स्फटिकारि-(सं. स्त्री.) फिटकीरी।

स्फटिकोपम-(सं. पुं.) कपूर, चन्द्रकान्त

मणि।

स्फटिकोपल-(सं. पुं.) बिल्लौर।

स्फाटक-(सं. पुं.) फिटकीरी।

स्फाटिक-(सं. वि.) बिल्लौर-सम्बन्धी।

स्फार-(सं. वि.) विपुल, बहुत, विकट, प्रचुर।

स्फाल-(सं. पुं.) स्फूर्ति, तीव्रता।

स्फिक, स्फिक्-(सं. पुं.) चूतर।

स्फीत-(सं. वि.) समृद्ध, फूला हुआ, बढ़ा

हुआ।

स्फीति-(सं. स्त्री.) वृद्धि, बढ़ती।

स्फुट-(सं. वि.) खिटा हुआ, विकसित,

स्पष्ट, शुक्ल, अलग-अलग, फुटकर,

व्यक्त, प्रत्यक्ष।

स्फुटन-(सं. पुं.) विकसित होना, खिलना।

स्फुटबंधनी-(सं. स्त्री.) मालकंगनी।

स्फुटा-(सं. स्त्री.) साँप का फन।

स्फुटार्थ-(सं. वि.) स्पष्ट अर्थ का।

स्फुटिका-(सं. स्त्री.) फिटकीरी।

स्फुटित-(सं. वि.) विकसित, खिला

हुआ, स्पष्ट किया हुआ, हँसता हुआ।

स्फुटी-(सं. स्त्री.) पैर में विवाई फटना,

ककड़ी, फूट।

स्फुटीकरण-(सं. पुं.) प्रकट या स्पष्ट करना।

स्फुर-(सं. पुं.) किसी पदार्थ का थोड़ा-

थोड़ा हिलना, किसी अंग का फड़कना।

स्फुरति-(हिं. स्त्री.) देखें 'स्फूर्ति'।

स्फुरित-(सं. वि.) हिलने या फड़कनेवाला।

स्फुल-(सं. पुं.) तंबू।

स्फुलन-(सं. पुं.) स्फुरण।

स्फुलिंग-(सं. पुं.) आग की चिनगारी।

स्फुलिंगिनी-(सं. स्त्री.) अग्नि की सात

जिह्वाओं में से एक।

स्फूर्जन-(सं. पुं.) तेंदू नामक वृक्ष।

स्फूर्ति-(सं. स्त्री.) स्फुरण, धीरे-धीरे

हिलना, आवेश, प्रेरणा, उत्तेजना।

स्फोट-(सं. पुं.) फोड़ा, फुंसी, विदारण,

किसी वस्तु का फूटना, मुक्ता, मोती,

शब्द का नित्यत्व।

स्फोटक-(सं. पुं.) फोड़ा-फुंसी, मिलावाँ।

स्फोटन-(सं. पुं.) विदारण, फाड़ना,

शब्द, ध्वनि।

स्फोटा-(सं. स्त्री.) साँप का फन।

स्फोटिनी-(सं. स्त्री.) कर्कटिका, ककड़ी।

स्फोरण-(सं. पुं.) स्फुरण, स्फूर्ति।

स्मय-(सं. पुं.) गर्व, अभिमान।

स्मर-(सं. पुं.) कामदेव, मदन, स्मृति,

स्मरण, शुद्ध राग का एक भेद; -कथा-

(स्त्री.) काम को उत्तेजित करनेवाली

कथा; -क्षुभक-(पुं.) योनि, भग; -गुरु-

(पुं.) श्रीकृष्ण; -गृह-(पुं.) भग, योनि;

-च्छत्र-(पुं.) भग, योनि; -दशा-

(स्त्री.) प्रेमी और प्रेमिका के समागम न

होने पर उनके विरह की अवस्था;

-दहन-(पुं.) शिव, महादेव; -ध्वज-

(पुं.) पुरुष का लिंग; -ध्वजा-(स्त्री.)

चांदनी रात; -प्रिया-(स्त्री.) कामदेव

की पत्नी, रति; -मंदिर-(पुं.) योनि,

भग; -लेखनी-(स्त्री.) मैना पक्षी;

-वधू-(स्त्री.) कामदेव की पत्नी, रति;

-वीथिका-(स्त्री.)वेश्या, रंडी; -शत्रु-(पुं.) कामदेव के शत्रु, शिव; -सख-(पुं.) चन्द्रमा ।

स्मरण-(सं. पुं.) स्मृति, किसी बात की याद, चर्चा, नौ प्रकार की भक्तियों में से एक जिसमें उपासक अपने उपास्य देवता को वारंवार याद करता रहता है, साहित्य में वह अलंकार जिसमें समान वस्तु को देखकर पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण होता है; -पत्र-(पुं.) वह पत्र जो किसी को कोई बात याद दिलाने के लिये लिखा जाय; -शक्ति-(स्त्री.) स्मरण या याद रखने की शक्ति ।

स्मरणीय-(सं. वि.) याद करने योग्य ।

स्मरना-(हिं. क्रि. स.) याद करना ।

स्मरामार-(सं. पुं.) भग, योनि ।

स्मरारि-(सं. पुं.) शिव, महादेव ।

स्मरारव-(सं. पुं.) ताड़ी ।

स्मरोद्दीपन-(सं. पुं.) कामोद्दीपन ।

स्मर्ण-(हिं. पुं.) देखें 'स्मरण' ।

स्मर्तव्य-(सं. वि.) स्मरण करने योग्य ।

स्मशान-(हिं. पुं.) देखें 'श्मशान' ।

स्मारक-(सं. वि.) स्मरण करानेवाला, याद दिलानेवाला; (पुं.) वह भवन, स्तूप आदि जो किसी की स्मृति बनाये रखने के लिये निर्मित की जाय ।

स्मारणी-(सं. स्त्री.) ब्राह्मी वृटी ।

स्मार्त-(सं. पुं.) स्मृति-शास्त्र के अनुसार कर्म, स्मृति-शास्त्र का अच्छा ज्ञाता; (वि.) स्मृति-संबंधी ।

स्मित-(सं. पुं.) मंद हास, धीमी हँसी; (वि.) विकसित, खिला हुआ ।

स्मृत-(सं. वि.) याद किया हुआ ।

स्मृति-(सं. स्त्री.) स्मरण, याद, मानसिक शक्ति विशेष, चिंतन, शास्त्रविशेष, धर्मशास्त्र, संहिता, अठारह की संख्या, एक छंद का नाम; -कार-(पुं.) स्मृति या धर्मशास्त्र बनानेवाला;

-कारक-(पुं.) धर्मशास्त्र के प्रणेता मन्वादि ऋषि; -पाठक-(पुं.) स्मृति-शास्त्र पढ़नेवाला; -बोधिनी-(स्त्री.)

ब्राह्मी वृटी; -अंश-(पुं.) स्मरण-शक्ति का नाश; -विभ्रम-(पुं.)

स्मरण-शक्ति का नाश; -विच्छ- (वि.) धर्मशास्त्र के विपरीत; -शास्त्र-(पुं.)

धर्मशास्त्र; -सम्मत-(वि.) धर्म-शास्त्र द्वारा अनुमोदित; -हर-(वि.)

स्मृतिनाशक; -हेतु-(पुं.) भावना, वासना ।

स्मैर-(सं. वि.) विकसित, खिला हुआ ।

स्यंद, स्यंदन-(सं. पुं.) टपकना, चूना, गलना, पसीजना, निकलना ।

कास्यंदनि-(सं. स्त्री.) छोटी नदी, नहर ।

स्यमंतक-(सं. पुं.) श्रीकृष्ण का प्रसिद्धमणि, (पुराण के अनुसार इसकी चोरी का कलंक श्रीकृष्ण को लगा था ।)

स्यमिक-(सं. पुं.) बल्मीक, बाँधी ।

स्यात्-(सं. अव्य.) कदाचित् ।

स्याद्वाद-(सं. पुं.) जैन-दर्शन का संशयवाद ।

स्यान-(हिं. वि.) देखें 'स्याना' ।

स्यानप-(हिं. पुं.) देखें 'स्यानपन' ।

स्यानपत-(हिं. पुं.) चतुराई, धूर्तता ।

स्यानपन-(हिं. पुं.) चतुरता ।

स्याना-(हिं. वि.) चतुर, धूर्त, वयस्क, प्रौढ़; (पुं.) वृद्ध, गाँव का मुखिया, हकीम, ओझा ; -पन-(पुं.) प्राप्त-

वयस्कता, चतुराई, धूर्तता ।

स्यावास-(हिं. अव्य.) देखें 'शावास' ।

स्यामक-(हिं. पुं.) देखें 'श्यामक' ।

स्यामकरण-(हिं. पुं.) देखें 'श्यामकरण' ।

स्यामता-(हिं. स्त्री.) देखें 'श्यामता' ।

स्यामल-(हिं. वि.) देखें 'श्यामल' ।

स्यामलिया-(हिं. पुं.) कृष्ण ।

स्यामा-(हिं. स्त्री.) देखें 'श्यामा' ।

स्यार-(हिं. पुं.) गीदड़, सियार; -पन-(पुं.) शृगाल के सदृश प्रकृति, भोरता, चालाकी; -लाठी-(स्त्री.)

अमलतास ।

स्यारी-(हिं. स्त्री.) शृगाली, सियारिन ।

स्याल-(सं. पुं.) श्यालक, साला ।

स्यालक-(सं. पुं.) पत्नी का भाई, साला ।

स्यालिवा, स्याली-(सं. स्त्री.) पत्नी की बहन, साली ।

स्याह-(फा. वि.) काला ।

स्याह जीरा-(हिं. पुं.) काला जीरा ।

स्याही-(फा. स्त्री.) कालापन, कालिख, काजल, रोशनाई, मपि ।

स्युत-(सं. वि.) सिला हुआ ।

स्युति-(सं. स्त्री.) सिलाई, सन्तति ।

स्युन-(सं. पुं.) रश्मि, किरण, सूर्य ।

स्यो, स्यो-(हिं. अव्य.) सहित, समीप, पास ।

स्यंग-(हिं. पुं.) देखें 'श्रुंग', सींग ।

स्यंस-(सं. पुं.) पतन, अंश, नाश ।

स्यंसन-(सं. पुं.) गर्भपात, अधःपतन, नाश ।

स्यक्-(सं. स्त्री.) फूलों की माला, ज्योतिष में एक प्रकार का योग, एक वृत्त जिसके

प्रत्येक चरण में पंद्रह वर्ण होते हैं ।

स्यगणु-(सं. पुं.) माला के आकार में लिखित मन्त्र ।

स्यग्धर-(सं. वि.) माला पहननेवाला ।

स्यग्धरा-(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में एककीस अक्षर होते हैं; (विं.) माला पहननेवाला ।

स्यग्विणी-(सं. स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में बारह अक्षर होते हैं; (विं. स्त्री.) माला पहननेवाली ।

स्यज-(सं. स्त्री.) माला ।

स्यज्वा-(सं. पुं.) माला बनानेवाला माली ।

स्यस-(हिं. पुं.) देखें 'श्रम' ।

स्यमित-(सं. वि.) देखें 'श्रमित' ।

स्यवंती-(सं. स्त्री.) नदी ।

स्यव-(सं. पुं.) मूत्र, झरना, बहाव ।

स्यवण-(सं. पुं.) पसीना, मूत्र, गर्भपात; (हिं. पुं.) देखें 'श्रवण' ।

स्यवना-(हिं. क्रि. अ.) वहना, टपकना, गिरना ।

स्यष्टा-(सं. पुं.) ब्रह्मा, शिव, विष्णु, सृष्टि करनेवाला ।

स्यापित-(हिं. वि.) देखें 'शापित' ।

स्यारव-(सं. पुं.) क्षरण, झरना ।

स्यारक-(सं. पुं.) वहाने या टपकानेवाला ।

स्यारित-(सं. वि.) टपकाकर या चुआ-

कर निकाला हुआ ।

स्यारी-(सं. वि.) रसानेवाला, वहानेवाला ।

स्यार्य-(सं. वि.) वहाने योग्य ।

स्यारि-(हिं. पुं.) देखें 'श्रुंग' ।

स्यारि-(हिं. स्त्री.) देखें 'श्रिय' ।

स्युनी-(सं. स्त्री.) सज्जी मिट्टी ।

स्युत-(हिं. वि.) देखें 'श्रुत'; (सं. वि.) वहता हुआ ।

स्युति-(सं. स्त्री.) बहाव, क्षरण ।

स्युवा-(सं. स्त्री.) हवन करने की एक प्रकार की लकड़ी की बनी हुई छोटी करछी ।

स्युनी-(हिं. स्त्री.) देखें 'श्रेणी' ।

स्युत-(सं. पुं.) पानी का झरना या सोता ।

स्युतस्विनी-(सं. स्त्री.) नदी ।

स्युतबहा-(सं. स्त्री.) नदी ।

स्युन-(हिं. पुं.) देखें 'श्रवण' ।

स्युनित-(हिं. पुं.) देखें 'शोणित' ।

स्युंग-(सं. पुं.) सुंदर शरीर; (वि.) अच्छे अंगोंवाला ।

स्युः-(सं. पुं.) स्वर्ग; -स्युः-(स्त्री.)

गंगा; -स्युः-(स्त्री.) अप्सरा ।

स्युः-(सं. पु.) धन, विष्णु, जाति, वन्धु; (वि.) अपना, आत्मीय ।

स्युकंपन-(सं. पुं.) वायु, हवा ।

स्युक-(सं. वि.) निजी ।

स्युकरण-(सं. पुं.) स्वीकार, अपना स्वत्व जताना ।

स्वकर्म—(सं. पूं.) अपना काम ।
 स्वकर्मी—(सं. वि.) स्वार्थी ।
 स्वकामी—(सं. वि.) केवल अपने लिये काम करनेवाला, स्वार्थी ।
 स्वकाल—(सं. पूं.) किसी कार्य का उपयुक्त या निर्दिष्ट काल ।
 स्वकीया—(सं. स्त्री.) अपने ही पति में अनुराग करनेवाली नायिका ।
 स्वकुल—(सं. पूं.) अपना वंश; -क्षय—(वि.) अपने कुल का नाश करनेवाला ।
 स्वकुल्य—(सं. वि.) अपने कुल का ।
 स्वकृत—(सं. वि.) अपना काम करनेवाला, अपना किया हुआ ।
 स्वगत—(सं. अव्य.) आप ही आप, अपने आप को; -कथन—(पुं.) नाटक में किसी पात्र का अपने प्रति बोलना ।
 स्वगृह—(सं. पूं.) अपना घर ।
 स्वगोप—(सं. वि.) अपने शरीर को बचानेवाला ।
 स्वच्छंद—(सं. वि.) स्वाधीन, स्वतन्त्र, मनमाना, वेधङ्क, -चारिणी—(स्त्री.) वेश्या, रंडी; -चारी—(वि.) मनमौजी; -ता—(स्त्री.) स्वतन्त्रता; -पत्र—(पुं.) अत्रक; -मणि—(पुं.) स्फटिक ।
 स्वच्छ—(सं. वि.) शुक्ल, उज्ज्वल, निर्मल, पवित्र; (पुं.) स्फटिक, अत्रक, मोती; -ता—(स्त्री.) निर्मलता ।
 स्वच्छना—(हिं. क्रि. स.) निर्मल करना ।
 स्वच्छी—(हिं. वि.) स्वच्छ ।
 स्वज—(सं. पूं.) रुधिर, पुत्र, बेटा, पत्नीना; (वि.) आप से आप उत्पन्न, स्वाभाविक ।
 स्वजन—(सं. पूं.) संबंधी, आत्मीय जन ।
 स्वजनता—(सं. स्त्री.) स्वजन का सम्बन्ध ।
 स्वजन्मा—(सं. वि.) अपने आप उत्पन्न ।
 स्वजात—(सं. वि.) पुत्र, बेटा; (वि.) स्वज ।
 स्वजाति—(सं. स्त्री.) अपनी जाति ।
 स्वजातीय—(सं. वि.) अपनी जाति का, एक ही जाति का ।
 स्वजात्य—(सं. वि.) अपनी जाति का ।
 स्वजित—(सं. वि.) अपनी इंद्रियों पर विजय करनेवाला ।
 स्वतंत्र—(सं. वि.) जो किसी के अधीन या अंतर्गत न हो, स्वेच्छाचारी, मनमानी करनेवाला, मित्र, पृथक् ।
 स्वतंत्रता—(सं. स्त्री.) स्वतंत्र होने का भाव, स्वाधीनता ।
 स्वतंत्रो—(सं. वि.) स्वाधीन ।
 स्वतः—(सं. अव्य.) अपने आप, आप ही ।
 स्वतुल्य—(सं. वि.) अपने तुल्य, अपने समान ।

स्वतोविरोधी—(सं. पूं.) अपना ही खण्डन या विरोध करनेवाला ।
 स्वत्व—(सं. पूं.) अधिकार, स्वामित्व ।
 स्वत्वाधिकारी—(सं. पूं.) स्वामी, अधिकारी ।
 स्वदन—(सं. पूं.) स्वाद लेना, चखना ।
 स्वदृष्ट—(सं. पूं.) स्वयं देखा हुआ ।
 स्वदेश—(सं. पूं.) वह देश जिसमें किसी का जन्म और पालन-पोषण हुआ हो, मातृभूमि ।
 स्वदेशी, स्वदेशीय—(सं. वि.) अपने देश का, अपने देश से संबद्ध, अपने देश में उत्पन्न या बना हुआ ।
 स्वदोषज—(सं. वि.) जो अपने दोष से उत्पन्न हो ।
 स्वधर्म—(सं. पूं.) अपना धर्म ।
 स्वधा—(सं. अव्य.) देवता तथा पितरों को हवि और दान देने का मन्त्र, पितरों के निमित्त देने का अन्न; (स्त्री.) दक्ष की कन्या का नाम ।
 स्वधाकर—(सं. वि.) श्राद्ध करनेवाला ।
 स्वधाधिप—(सं. पूं.) अग्नि ।
 स्वधाभोजी—(सं. पूं.) पितृगण ।
 स्वधिति—(सं. स्त्री.) वज्र, कुठार, कुल्हाड़ी ।
 स्वधोत—(सं. वि.) अच्छी तरह पाठ किया हुआ ।
 स्वन—(सं. पूं.) ध्वनि, शब्द ।
 स्वनाम—(सं. पूं.) अपना नाम; -धन्य—(वि.) अपने नाम के कारण धन्य होनेवाला ।
 स्वनामा—(सं. पूं.) जो अपने नाम से प्रसिद्ध हो ।
 स्वनित—(सं. पूं.) शब्द, मेघ की गड़गड़ाहट; (वि.) शब्दित, ध्वनित ।
 स्वनिष्ठ—(सं. वि.) अपना काम स्वयं करनेवाला ।
 स्वनुष्ठित—(सं. वि.) उत्तम रूप से किया हुआ ।
 स्वन्न—(सं. पूं.) उत्तम अन्न ।
 स्वपक्ष—(सं. पूं.) अपना पक्ष ।
 स्वपतित—(सं. वि.) आप से आप गिरा हुआ ।
 स्वपन—(सं. पूं.) निद्रा, नींद, सपना ।
 स्वपनीय—(सं. वि.) निद्रा के योग्य ।
 स्वपूर्ण—(सं. वि.) अपने अस्तित्व से पूर्णतः संतुष्ट ।
 स्वप्न—(सं. पूं.) निद्रा, निद्रावस्था में चित्तवृत्तिजनित प्रत्यक्ष बोध, नींद; -कृत—(वि.) नींद लगनेवाला; -गृह—(पुं.) सोने का घर; -ज—(वि.) नींद

में उत्पन्न; -ज्ञान—(पुं.) स्वप्न में होनेवाला ज्ञान; -दर्शन—(वि.) बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ करनेवाला; -दोष—(पुं.) निद्रावस्था में स्वतः वीर्यपात; -निकेतन—(पुं.) शयनागार; -स्थान—(पुं.) निद्रागृह ।
 स्वप्नांत—(सं. पूं.) जागरण ।
 स्वप्नाना—(हिं. क्रि. स.) स्वप्न दिखाना ।
 स्वप्नालु—(सं. वि.) निद्रालु, सोनेवाला ।
 स्वप्रकाश—(सं. वि.) जो स्वयं ही प्रकाशमान हो ।
 स्वप्रकृतिक—(सं. वि.) प्रकृति से ही उत्पन्न होनेवाला ।
 स्वप्रधान—(सं. वि.) अपने पर भरोसा रखनेवाला, स्वाधीन ।
 स्ववरन—(हिं. वि.) देखें 'सुवर्ण' ।
 स्वबीज—(सं. पूं.) आत्मा ।
 स्वभाउं—(हिं. पूं.) देखें 'स्वभाव' ।
 स्वभाव—(सं. पूं.) मन की प्रवृत्ति, स्वाभाविक अवस्था, प्रकृति, वान; -ज—(वि.) प्रकृति से उत्पन्न, सहज; -तः—(अव्य.) स्वभाव या प्रकृति से; -त्व—(पुं.) प्रकृतिगत भाव; -सिद्ध—(वि.) स्वाभाविक, सहज, स्वभाव से होनेवाला ।
 स्वभाविक—(हिं. वि.) देखें 'स्वाभाविक' ।
 स्वभावोक्ति—(सं. स्त्री.) वह अलंकार जिसमें किसी की जाति, अवस्था आदि के अनुसार यथावत् और प्राकृतिक रूप से वर्णन किया जाता है ।
 स्वभ—(सं. पूं.) विष्णु, ब्रह्मा, शिव; (वि.) जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो ।
 स्वभूति—(सं. स्त्री.) अपना हित या कल्याण ।
 स्वभूमि—(सं. स्त्री.) अपनी भूमि, स्वदेश ।
 स्वयं—(सं. अव्य.) आप से आप, आप ही; -दत्त—(पुं.) वह बालक जो स्वयं किसी का दत्तकपुत्र बन जाय; -दान—(पुं.) स्वेच्छा से कन्यादान करना; -दूत—(पुं.) वह नायक जो अपनी काम-वासना को नायिका पर स्वयं प्रकट करता हो; -दूती—(स्त्री.) वह नायिका जो नायक पर अपनी काम-वासना को स्वयं प्रकट करती हो; -दृश—(वि.) स्वयं देखनेवाला; -प्रकाश—(वि.) जो स्वयं प्रकाशित हो; (पुं.) परमेश्वर, परमात्मा; -प्रभा—(स्त्री.) एक अप्सरा का नाम; -प्रमाण—(वि.) जिसकी सत्यता के लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो; -फल—(वि.) जो आप ही अपना फल हो और किसी दूसरे कारण से न उत्पन्न हुआ हो; -भू—(पुं.) ब्रह्मा, विष्णु,

शिव, कामदेव, काल; (वि.) जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो; -वर- (पुं.) भारती संस्कृति की एक प्राचीन रीति जिसमें विवाहयोग्य कन्या अनेक विवाहार्थियों में से अपना वर चुन लेती थी; -वरण- (पुं.) अपना वर स्वयं चुन लेना; -वरा- (स्त्री.) अपने लिये स्वयं वर चुननेवाली स्त्री; -वह- (पुं.) स्वयं अपने आप को धारण करनेवाला; -सिद्ध- (वि.) जिसकी सिद्धि के लिये दूसरे तर्क, प्रमाण आदि की आवश्यकता न हो, जिसने आप ही सिद्धि प्राप्त कर ली हो; -सेवक- (पुं.) वह जो बिना किसी पुरस्कार या वेतन के सेवा का कार्य करता हो।
 स्वयमधिगत- (सं. वि.) स्वयं प्राप्त किया हुआ।
 स्वयमनुष्ठित- (सं. वि.) जिसका अनुष्ठान स्वयं किया गया हो।
 स्वयमजित- (सं. वि.) स्वयं कमाया हुआ।
 स्वयमीश्वर- (सं. पुं.) परमात्मा, परमेश्वर।
 स्वयमुज्ज्वल- (सं. वि.) जो स्वयं ही द्युतिमान हो।
 स्वयमुदित- (सं. वि.) जो अपने आप उदित हुआ हो।
 स्वयमेव- (सं. अव्य.) अपने आप, खुद, स्वयं ही।
 स्वयंश- (सं. पुं.) अपनी कीर्ति।
 स्वयंस्त- (सं. वि.) परस्पर संयुक्त।
 स्वयंस्वित- (सं. स्त्री.) अपनी युक्ति।
 स्वयंनि- (सं. वि.) जो आप ही अपनी उत्पत्ति का स्थान हो।
 स्वर- (सं. पुं.) स्वर्ग, आकाश, परलोक, वह ध्वनि जो व्यक्ति के कंठ से उत्पन्न हो, (यह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित—तीन प्रकार की होती है), व्याकरण में वह वर्ण जिसका उच्चारण आप से आप या स्वतन्त्र होता है, (यह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत—तीन प्रकार से उच्चारित होता है), नासिक्य स्वर जिसके द्वारा अजपा मन्त्र का जप होता है, संगीत में सात प्रकार के सुर जो कोमलता या तीव्रता के आधार पर निश्चित हैं, (संगीत में सा, रे, ग, म, प, ध, नि—ये सात स्वर होते हैं); (मुहा.)—उत्तरना—स्वर का धीमा होना; -चढ़ना—स्वर का तीव्र होना।
 स्वरकर- (सं. वि.) स्वर को सुरीला बनाने वाला।

स्वरक्षय- (सं. पुं.) गला बैठने का विकार।
 स्वरनादी- (सं. पुं.) मुख से फूँककर बजाने का वाजा।
 स्वरभंग- (सं. पुं.) गला बैठने और स्पष्ट स्वर न निकलने का रोग।
 स्वरभंगी- (सं. वि., पुं.) (वह) जिसका गला बैठ गया हो।
 स्वरभानु- (सं. पुं.) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम।
 स्वरभाव- (सं. पुं.) स्वर से ही भावों को प्रकट करना।
 स्वरभेद- (सं. पुं.) गला बैठ जाना।
 स्वरसंभल- (सं. पुं.) एक प्रकार का वाजा जिसमें तार लगे होते हैं।
 स्वरत्वासिका- (सं. स्त्री.) मुरली, बंसी।
 स्वरशास्त्र- (सं. पुं.) वह शास्त्र जिसमें स्वर-संबंधी बातों का विवेचन हो।
 स्वरसंक्रम- (सं. पुं.) संगीत में स्वरों का उतार-चढ़ाव।
 स्वरस- (सं. पुं.) (फल, फूल, पत्ती आदि को) कूट-पीसकर निकाला हुआ रस।
 स्वरसाद- (सं. पुं.) गला बैठ जाना।
 स्वरसादि- (सं. पुं.) क्वाथ, काढ़ा।
 स्वरान्त- (सं. वि.) जिसके अन्त में कोई स्वर हो।
 स्वरान्श- (सं. पुं.) संगीत में स्वर का आधा अंश।
 स्वराज्य- (सं. पुं.) वह राज्य जिसमें वहाँ के निवासी स्वयं स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं।
 स्वराद- (सं. पुं.) ईश्वर, ब्रह्मा।
 स्वरापगा- (सं. स्त्री.) मन्दाकिनी, गंगा।
 स्वराष्ट्र- (सं. पुं.) अपना राज्य।
 स्वरित- (सं. वि.) स्वर युक्त; (पुं.) का वह उच्चारण जो न बहुत तीव्र हो और न बहुत धीमा।
 स्वरुचि- (सं. स्त्री.) स्वेच्छा, अपनी रुचि।
 स्वरूप- (सं. पुं.) आकृति, आकार, मूर्ति, चित्र, स्वभाव, अभिनय में देवताओं आदि का धारण किया हुआ रूप, वह जो किसी देवता का रूप धारण किये हो, विद्वान्, पण्डित; (वि.) सुंदर, तुल्य; (अव्य.) (समस्त पदों में) के रूप में; -ज्ञ- (पुं.) परमात्मा का स्वरूप पहचाननेवाला; -प्रतिष्ठा- (स्त्री.) जीव का अपनी स्वाभाविक शक्तियों और गुणों से युक्त होना; -दान्- (वि.) सुंदर; -संबंध- (पुं.) अभिन्न सम्बन्ध।
 स्वरूपाभास- (सं. पुं.) वास्तविक स्वरूप

न होने पर भी उसका आभास दिखाई पड़ना।
 स्वरूपी- (सं. वि.) स्वरूपयुक्त, स्वरूपवाला, जिसने किसी का स्वरूप धारण किया हो।
 स्वरूपोत्प्रेक्षा- (सं. स्त्री.) उत्प्रेक्षा अलंकार का एक भेद।
 स्वरोचिष- (सं. पुं.) स्वरोचिष मनु के पिता का नाम।
 स्वरोद- (सं. पुं.) एक प्रकार का वाजा जिसमें तार लगे होते हैं।
 स्वरोदय- (सं. पुं.) वह शास्त्र जिसमें स्वर द्वारा शुभाशुभ फल बतलाया जाता है।
 स्वर्ग- (सं. पुं.) देवलोक; सुरलोक, वह स्थान जहाँ दुःख का लेश भी न हो, ईश्वर, आकाश, सुख; (मुहा.)—सिधारना—मृत्यु को प्राप्त होना; -काम- (वि.) स्वर्ग की कामना करनेवाला; -गंगा- (स्त्री.) मन्दाकिनी; -गति- (स्त्री.), -गमन- (पुं.) मरण; -गामी- (वि.) स्वर्गीय, स्वर्ग को जानेवाला, मृत, मरा हुआ; -तरु- (पुं.) पारिजात, परजाता; -द- (वि.) स्वर्ग देनेवाला; -धेनु- (स्त्री.) कामधेनु; -नदी- (स्त्री.) आकाश-गंगा; -पति- (पुं.) इन्द्र; -पुरी- (स्त्री.) इन्द्र की पुरी, अमरावती; -पुष्प- (पुं.) लवंग; -लाभ- (पुं.) स्वर्ग में पहुँचना, मरना; -लोक- (पुं.) देवलोक; -लोकेश- (पुं.) इन्द्र; -वधू- (स्त्री.) अप्सरा; -वाणी- (स्त्री.) आकाशवाणी; -वास- (पुं.) स्वर्ग में रहना, मरना; -वासी- (वि.) मृत, जो मर गया हो; -सार- (पुं.) एक ताल का नाम; -स्त्री- (स्त्री.) अप्सरा; -स्य- (वि.) स्वर्गवासी।
 स्वर्गापगा- (सं. स्त्री.) मन्दाकिनी।
 स्वर्गामी- (सं. वि.) जो स्वर्ग चला गया हो।
 स्वर्गरूढ़- (सं. वि.) स्वर्ग को सिधारा हुआ, मृत।
 स्वर्गरोहण- (सं. पुं.) स्वर्ग सिधारना, मरना।
 स्वर्गी- (सं. पुं.) देवता; (वि.) स्वर्ग-गामी, स्वर्ग-संबंधी।
 स्वर्गीय- (सं. वि.) स्वर्ग-सम्बन्धी, स्वर्ग का, मृत, मरा हुआ।
 स्वर्जि, स्वर्जिक- (सं. स्त्री., पुं.) यवहार, शोरा।
 स्वर्ण- (सं. पुं.) सुवर्ण, सोना, धतूरा

नागकेशर; -कदली-(स्त्री.) सोना-केना; -कमल-(पुं.) लाल कमल; -काय-(पुं.) गरुड़; -कार-(पुं.) सुनार; -कूट-(पुं.) हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम; -क्षीरी-(स्त्री.) भड़भाड़; -गिरि-(पुं.) सुमेरु पर्वत; -चूड़-(पुं.) नीलकण्ठ पक्षी; -ज-(पुं.) सोनामक्खी नामक धातु; -जातिका-(स्त्री.) पीली चमेली; -जूवी-(पुं.) सोनार; -जूही-(हि. स्त्री.) पीली जूही; -द-(वि.) सोना दान करनेवाला; -दा-(स्त्री.) मन्दाकिनी; -दीधिति-(पुं.) अग्नि; -द्रु-(पुं.) अमलतास; -निभ-(वि.) सोने के रंग के समान; -पक्ष-(पुं.) गरुड़; -पत्र-(पुं.) सोने का पत्तर; -पर्पटी-(स्त्री.) संग्रहणी रोग की एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि; -पुष्प-(पुं.) अमलतास, चम्पा; -फल-(पुं.) घतूरा; -भाज्-(पुं.) सूर्य; -भूमि-(स्त्री.) वह स्थान जहाँ सब प्रकार का सुख उपलब्ध हो; -भूषण-(पुं.) सोने का अलंकार; -माक्षिक-(पुं.) सोनामक्खी नामक उपधातु; -मुद्रा-(स्त्री.) सोने की मुद्रा; -ग्रथिका-(स्त्री.) पीली जूही; -रेखा-(स्त्री.) एक विद्याधरी का नाम; -रुता-(स्त्री.) ज्योतिष्मती लता, मालकंगनी; -वर्णा-(स्त्री.) हल्दी, दारुहल्दी; -विद्रु-(पुं.) विष्णु; -विद्या-(स्त्री.) सोना बनाने की विद्या।
स्वर्णाकर-(सं. पुं.) सोने की खान।
स्वर्णाभ-(सं. पुं.) हरताल; (वि.) सोने के रंग-जैसा।
स्वर्णाभा-(सं. स्त्री.) पीली जूही।
स्वर्णारि-(सं. पुं.) गन्धक, सीसा।
स्वर्णिका-(सं. स्त्री.) घनिया।
स्वर्णुनी-(सं. स्त्री.) गंगा।
स्वर्णगरी-(सं. स्त्री.) अमरावती नगरी।
स्वर्णदी-(सं. स्त्री.) स्वर्गगंगा।
स्वर्पति-(सं. पुं.) स्वर्ग के स्वामी, इन्द्र।
स्वर्भानु-(सं. पुं.) राहु, सत्यमामा के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम।
स्वर्लोक-(सं. पुं.) स्वर्ग।
स्वर्बंध, स्वर्बंध्या-(सं. स्त्री.) अप्सरा।
स्वर्बंध-(सं. पुं.) स्वर्ग के वैद्य अश्विनी-कुमार।
स्वल्प-(सं. वि.) अत्यल्प, बहुत थोड़ा; -केशरी-(पुं.) कचनार; -केशी-(वि.) जिसके बहुत कम बाल हों; -जंबुक-

(पुं.) लोमड़ी; -दृश-(वि.) बहुत कम देखनेवाला, अदूरदर्शी; -फला-(स्त्री.) अपराजिता; -शरीर-(वि.) छोटे शरीर का।
स्ववरन-(हि. पुं.) देखें 'सुवर्ण'।
स्ववश-(सं. वि.) जो अपने वश में हो, जितेन्द्रिय।
स्ववासिनी-(सं. स्त्री.) अपने पिता के घर रहनेवाली स्त्री।
स्वश्लाघा-(सं. स्त्री.) आत्माभिमान।
स्वसंभव-(सं. वि.) जो अपने से उत्पन्न हो।
स्वसंभूत-(सं. वि.) जो आप से आप उत्पन्न हो।
स्वसंवेदन-(सं. पुं.) अपना अनुभव।
स्वसंवेद्य-(सं. वि.) केवल अपने ही अनुभव के योग्य।
स्वसमुत्थ-(सं. वि.) स्वाभाविक।
स्वसा-(सं. स्त्री.) भगिनी, वहिन।
स्वसिद्ध-(सं. वि.) स्वयंसिद्ध।
स्वसुर, स्वसुराल-(हि. पुं., स्त्री.) देखें 'ससुर, ससुराल'।
स्वस्ति-(सं. अव्य.) आशीर्वादसूचक शब्द विशेष, कल्याण हो, मंगल हो; (स्त्री.) कल्याण, मंगल, सुख; -क-(पुं.) एक प्रकार का शाक, लहसुन, हठयोग का एक आसन, एक प्रकार का मंगल-द्रव्य जो चावल पीसकर बनाया जाता है, चतुष्पथ; रतालू, सर्प के फन पर की रेखा, एक प्रकार का मांगलिक चिह्न (卐), शरीर के विशिष्ट अंगों में होनेवाला कोई शुभ चिह्न; -कर्म-(पुं.) मंगलजनक कर्म; -का-(स्त्री.) चमेली; (हि. स्त्री.) स्वस्तिक नामक मंगल-चिह्न; -कृत्-(पुं.) शिव; (वि.) मंगल करनेवाला; -ग-(वि.) सुख से गमन करनेवाला; -द-(पुं.) शिव; (वि.) मंगल करनेवाला; -मत्, -मान्-(वि.) सौभाग्यशाली; -मती-(स्त्री.) कार्तिकेय की एक मातृका नाम; -मुख-(पुं.) स्तुति-पाठक, ब्राह्मण; -वाचन-(पुं.) मांगलिक कार्यों के आरंभ में किया जानेवाला एक प्रकार का धार्मिक कृत्य; -वाच्य-(पुं.) आशीर्वाद।
स्वस्त्ययन-(सं. पुं.) वह मंगलजनक कर्म जिसके करने से अशुभ का नाश हो और शुभ प्राप्त हो, ब्राह्मण का आशीर्वाद देना; (वि.) मंगलकारक।
स्वस्त्य-(सं. वि.) जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो, रोगमुक्त, सावधान; -चित्त-(वि.) शान्तचित्त।

स्वस्थान-(सं. पुं.) अपना स्थान।
स्वस्त्रीय-(सं. पुं.) वहन का लड़का, भानजा।
स्वस्त्रीया-(सं. स्त्री.) वहिन की लड़की, भानजी।
स्वांग-(हि. पुं.) हँसी-मजाक के लिए धारण किया हुआ रूप, इस प्रकार का खेल-तमाशा, भेस बनाना, नकल करना।
स्वांस-(हि. स्त्री.) देखें 'सांस'।
स्वांसा-(हि. स्त्री.) सांस।
स्वाकार-(सं. पुं.) स्वभाव।
स्वाक्षर-(सं. पुं.) हस्ताक्षर।
स्वाक्षरित-(सं. वि.) हस्ताक्षर किया हुआ।
स्वाख्यात-(सं. वि.) अच्छी तरह कहा हुआ।
स्वागत-(सं. पुं.) किसी के पधारने पर उसका आदरसहित अभिनन्दन करना, अगवानी; -कारिणी सभा-(स्त्री.) वह विशिष्ट समिति जो किसी बड़ी सभा या सम्मेलन में दूर से आनेवाले प्रतिनिधियों का स्वागत, ठहरने तथा भोजन आदि का प्रबन्ध करने के लिये संघटित होती है; -कारी-(वि.) अगवानी करनेवाला; -पतिका-(स्त्री.) वह नायिका जो अपने पति के परदेश से लौटने पर प्रसन्न होती है; -प्रिया-(पुं.) वह नायक जो अपनी प्रेमिका के परदेश से लौटने पर प्रसन्न होता है।
स्वागता-(सं. स्त्री.) वह छन्द जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह अक्षर होते हैं।
स्वागतिक-(सं. पुं.) अभ्यागत का सत्कार करनेवाला।
स्वाच्छेद्य-(सं. पुं.) स्वच्छेदता।
स्वातंत्र्य-(सं. पुं.) स्वतंत्रता।
स्वाति-(सं. स्त्री.) सूर्य की पत्नी, अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों में से पंद्रहवाँ नक्षत्र; -पंथ-(पुं.) आकाशगंगा; -सुत-(पुं.) मुक्ता, मोती; -सुवन-(हि. पुं.) मुक्ता, मोती।
स्वाद-(सं. पुं.) जीभ को होनेवाली रसानुभूति, इच्छा, कामना, आनन्द; (मुहा.)-चखाना-किये हुए अपराध का दण्ड देकर संतप्त करना।
स्वादक-(सं. पुं.) स्वाद चखनेवाला, वह जो भोज्य पदार्थों के तैयार हो जाने पर उन्हें चखता है।
स्वादन-(सं. पुं.) स्वाद लेना, चखना, आनन्द लेना।
स्वादित-(सं. वि.) चखा हुआ।

स्वादिष्ट—(हि.वि.), स्वादिष्ठ—(सं.वि.)
जो खाने में अच्छा लगे।
स्वादी—(सं.वि.) स्वाद चखनेवाला,
रसिक।
स्वादु—(सं.पुं.) मीठा रस, गुड़, महुआ,
चिरौजी, अनार, बेर, सैधा नमक,
दूध; (स्त्री.) द्राक्षा, दाख; (वि.)
मीठा, मधुर, सुंदर; -कंद—(पुं.)
पिंडाल; -खंड—(पुं.) गुड़ का टुकड़ा;
-तिक्त—(पुं.) अखरोट; -धन्वा—(पुं.)
कामदेव; -फला—(स्त्री.) केला;
-मूल—(पुं.) गाजर; -रसा—(स्त्री.)
सतावर, दाख; -लता—(स्त्री.) विदारी-
कंद।
स्वाद्य—(सं.वि.) स्वाद लेने या चखने
योग्य।
स्वाधिष्ठान—(सं.पुं.) हठयोग के अनु-
सार शरीर के भीतर के एक चक्र का नाम
जिसका स्थान शिश्न के मूल में है।
स्वाधीन—(सं.वि.) स्वतन्त्र, किसी का
नियंत्रण न माननेवाला, अपनी इच्छानुसार
चलनेवाला; -ता—(स्त्री.) स्वतन्त्रता;
-पतिका—(स्त्री.) पति को वशीभूत
करनेवाली नायिका; -भर्तृका—(स्त्री.)
स्वाधीनपतिका।
स्वाधीनी—(हि.स्त्री.) स्वाधीनता।
स्वाध्याय—(सं.पुं.) वेदों का नियम-
पूर्वक अध्ययन, किसी विषय का अनु-
शीलन, अध्ययन, वेद।
स्वाध्यायी—(सं.पुं.) वेद-पाठक।
स्वान—(सं.पुं.) शब्द, घड़घड़ाहट।
स्वानुभव—(सं.पुं.) अपना अनुभव।
स्वानुरूप—(सं.वि.) अपने समान।
स्वाप—(सं.पुं.) निद्रा, नीद, स्वप्न।
स्वापक—(सं.वि.) नीद लानेवाला।
स्वापन—(सं.पुं.) नीद लाने की औषध;
(वि.) नीद लानेवाला; (पुं.) प्राचीन
काल का एक प्रकार का अस्त्र जिसके
प्रभाव से शत्रु सो जाते थे।
स्वाभाविक—(सं.वि.) नैसर्गिक, प्राकृतिक,
जो स्वभाव से उत्पन्न हो।
स्वाभाव्य—(सं.वि.) अपने आप होनेवाला।
स्वामि—(हि.पुं.) देखें 'स्वामी'।
स्वामिकार्तिक—(सं.पुं.) शिव के पुत्र
कार्तिकेय, स्कन्द।
स्वामिकुमार—(सं.पुं.) स्वामिकार्तिक।
स्वामिता—(सं.स्त्री.), स्वामित्व—(सं.पुं.)
प्रभुत्व।
स्वामिनी—(सं.स्त्री.) मालिकिन, राधिका।
स्वामी—(सं.पुं.) मालिक, प्रभु, पति,

ईश्वर, राजा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु,
साधु-संन्यासियों की उपाधि, सेना-
नायक, गरुड़।
स्वाम्य—(सं.पुं.) स्वामित्व, स्वत्व।
स्वाम्युपकारक—(सं.वि.) अपने मालिक
का हित करनेवाला।
स्वायंभुव—(सं.पुं.) प्रथम मनु का नाम।
स्वायंभू—(सं.पुं.) देखें 'स्वायंभुव'।
स्वायत्त—(सं.वि.) जो अपने ही अधीन हो,
जिस पर अपना अधिकार हो; -शासन-
(पुं.) स्थानिक स्वसंचालित शासन-
व्यवस्था।
स्वार—(सं.पुं.) वादल की गड़गड़ाहट।
स्वारथ, स्वारथी—(हि.पुं., वि.) देखें
'स्वार्थ', 'स्वार्थी'।
स्वारब्ध—(सं.वि.) स्वयं आरंभ किया हुआ।
स्वाराज्य—(सं.पुं.) वह शासन-प्रबन्ध
जिसका संचालन अपने ही देश के लोगों
के हाथ में हो, स्वर्ग का राज्य, स्वर्गलोक।
स्वारी—(हि.स्त्री.) देखें 'सवारी'।
स्वारोचिष—(सं.पुं.) स्वरोचिष के पुत्र
दूसरे मनु।
स्वार्जित—(सं.वि.) अपना कमाया हुआ।
स्वार्थ—(सं.पुं.) अपना उद्देश्य, अपना
लाभ, अपना धन, अपना प्रयोजन;
(वि.) अपना उद्देश्य साधनेवाला;
-त्याग—(पुं.) दूसरे की भलाई अथवा
किसी अच्छे काम के लिये अपने हित या
लाभ का विचार छोड़ देना; -त्यागी-
(वि.) दूसरे के भले के लिये अपने
हित को निष्ठावर कर देनेवाला;
-पंडित—(वि.) अपना अशिष्टाचार
साधने में चतुर; -पर—(वि.) जो
केवल अपना ही स्वार्थ देखता हो;
-०ता—(स्त्री.) स्वार्थ; -परायण-
(वि.) स्वार्थपर; -०ता—(स्त्री.)
स्वार्थ; -साधक—(वि.) अपना अर्थ
साधनेवाला; -साधन—(पुं.) अपना
प्रयोजन पूरा करना।
स्वार्थाध—(सं.वि.) जो अपने हित या
लाभ के सामने और किसी की हानि या
लाभ पर विचार नहीं करता।
स्वार्थिक—(सं.वि.) अपने स्वार्थ के
उद्देश्य से सम्पादित, स्वार्थपर।
स्वार्थी—(सं.वि.) अपना ही स्वार्थ देखने-
वाला।
स्वालक्षण—(सं.वि.) जो सरलता से
पहचाना जा सके।
स्वावश्य—(सं.पुं.) आत्मवशता।
स्वाल—(हि.पुं.) देखें 'सवाल'।

स्वाशित—(सं.वि.) अच्छी तरह
भोजन किया हुआ।
स्वाश्रय—(सं.पुं.) अपनी सामर्थ्य का
आश्रय।
स्वाश्रित—(सं.वि.) स्वावलंबी।
स्वास—(हि.पुं.) देखें 'श्वास', साँस।
स्वासा—(हि.स्त्री.) श्वास, साँस।
स्वासीन—(सं.वि.) सुख से बैठे हुए।
स्वास्थ्य—(सं.पुं.) नीरोगता, आरोग्य,
सन्तोष, मानसिक शांति।
स्वास्थ्यकर—(सं.वि.) आरोग्यवर्धक।
स्वाहा—(सं.अव्य.) वह शब्द या मन्त्र
जिसका प्रयोग देवताओं को हवि देने
में किया जाता है; (स्त्री.) अग्नि
की पत्नी का नाम; (मुहा.) -करना-
नष्ट करना; -कृत्—(पुं.) यज्ञ करने-
वाला; -पति—(पुं.) अग्नि; -भुञ्ज-
(पुं.) देवता; -वल्लभ—(पुं.) अग्नि।
स्वाहार—(सं.पुं.) अपना आहार।
स्वाहार्ह—(सं.वि.) हवि पाने योग्य।
स्वाह्य—(सं.पुं.) कार्तिकेय।
स्विन्न—(सं.वि.) सीखा हुआ, उवाला
हुआ।
स्वीकरण—(सं.पुं.) अंगीकार करना,
मानना, अपनाना, विवाह करना।
स्वीकरणीय—(सं.वि.) मानने योग्य।
स्वीकार—(सं.पुं.) अंगीकार, प्रतिज्ञा,
वचन, पत्नी-रूप में ग्रहण करना, स्वीकर।
स्वीकार्य—(सं.वि.) मानने योग्य।
स्वीकृत—(सं.वि.) अंगीकृत, स्वीकार
किया हुआ, परिगृहीत।
स्वीकृति—(सं.स्त्री.) सम्मति, स्वीकार।
स्वीय—(सं.वि.) स्वकीय, अपना, निजी;
(पुं.) आत्मीय।
स्वीया—(सं.स्त्री.) वह नायिका जो स्वामी
में अनुरक्त तथा पतिव्रता रहने की
चेष्टा करती है।
स्वेच्छा—(सं.स्त्री.) अपनी इच्छा;
-मृत्यु—(वि.) अपनी इच्छानुसार
मरनेवाला; -सेवक—(पुं.) बिना
किसी पुरस्कार या वेतन के अपनी इच्छा
से कोई काम करनेवाला, स्वयंसेवक।
स्वेच्छाचार—(सं.पुं.) मनमाना काम
करना, जो जी में आये वही करना।
स्वेच्छाचारिता—(सं.स्त्री.) निरंकुशता,
मनमानी करना।
स्वेच्छाचारी—(सं.वि.) अपनी इच्छा-
नुसार चलनेवाला, मनमाना काम
करनेवाला।
स्वेद—(सं.पुं.) घर्म, पसीना, ताप, गरमी;

—क—(पुं.) पसीना लानेवाली औषध;
 —ज—(वि., पुं.) पसीने से उत्पन्न होने-
 वाला (जीव); —जल—(पुं.) पसीना;
 —नाश—(पुं.) वायु; —माता—(स्त्री.)
 मुक्त अन्न का बननेवाला रस; —लाव—
 (पुं.) पसीना निकलना ।
 स्वेदन—(सं.पुं.) स्वेद या पसीना निकलना ।
 स्वेदनिका—(सं. स्त्री.) पाकशाला,
 रसोईघर ।
 स्वेदनी—(सं. स्त्री.) लोहे का पात्र, तवा ।
 स्वेदांशु—(सं. पुं.) स्वेदजल, पसीना ।
 स्वेदाधिन—(सं. पुं.) रोमकूप ।
 स्वेदित—(सं. वि.) पसीने से युक्त, सेंका
 हुआ ।
 स्वेदी—(सं. वि.) पसीना लानेवाला ।
 स्वै—(हिं. सर्व.) सो, वही ।
 स्वैर—(सं. वि.) मनमाना आचरण करने-
 वाला, ऐच्छिक, यथेच्छ, मनमाना;
 (पुं.) स्वेच्छाधीनता; —गति—(वि.)
 स्वाधीनतापूर्वक भ्रमण करना;
 —चारिणी—(स्त्री.) व्यभिचारिणी
 स्त्री, —चारी—(वि.) मनमाना काम
 करनेवाला, व्यभिचारी; —ता—(स्त्री.)
 स्वच्छन्दता; —वर्ती—(वि.) स्वेच्छा-
 चारी; —वृत्त—(वि.) स्वेच्छाचारी;
 —वृत्ति—(स्त्री.) स्वाधीन वृत्ति ।
 स्वैराचार—(सं. पुं.) मनमाना काम
 करना ।
 स्वैरिणी—(सं. स्त्री.) व्यभिचारिणी स्त्री ।
 स्वैरता—(सं. स्त्री.) स्वच्छन्दता ।
 स्वरी—(सं. वि.) स्वतन्त्र, स्वाधीन ।
 स्वोत्थ—(सं. वि.) आप से निकला हुआ ।
 स्वोपाजित—(सं. वि.) स्वयं उपाजित
 किया हुआ, स्वयं कमाया हुआ ।
 स्वौजस्—(सं. पुं.) अपना ओज या तेज ।

ह

ह—संस्कृत तथा हिन्दी वर्णमाला का
 तृतीयसर्वा व्यंजन, (उच्चारण-
 विभाग के अनुसार यह ऊष्म वर्ण
 कहलाता है। इसका उच्चारण-स्थान
 कण्ठ है); (सं. पुं.) शिव, जल, हंसी,
 शून्य, मंगल, शुभ, आकाश, योग का एक
 आसन, घोड़ा, रुधिर, स्वर्ग, विष्णु,
 युद्ध, भग, चन्द्रमा, ज्ञान, ध्यान, गर्व,
 कारण ।
 ह—(सं. अव्य.) क्रोध का शब्द ।
 हक—(हिं. स्त्री.) देखें 'हाँक', पुकार ।
 हकड़ना—(हिं. क्रि. अ.) सिद्धकते हुए

जोर से चिल्लाना, ललकारना, साँड़
 आदि का बोलना ।
 हँकरना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'हँकड़ना' ।
 हँकवा—(हिं. पुं.) सिंह के आखेट का
 एक ढंग जिसमें बहुत से लोग ढोल आदि
 बजाकर तथा कोलाहल करते हुए सिंह
 को शिकारी के मचान की ओर ले जाते हैं ।
 हँकवाना—(हिं. क्रि. स.) हाँक लगवाना,
 बुलवाना, (बैल-गाड़ी आदि किसी के
 द्वारा) चलवाना ।
 हँकवया—(हिं. पुं.) हाँकनेवाला ।
 हँका—(हिं. स्त्री.) ललकार, डपट ।
 हँकाई—(हिं. स्त्री.) हाँकने की क्रिया या
 भाव, हाँकने का शुल्क ।
 हँकाना—(हिं. क्रि. स.) चौपायों या
 पशुओं को चिल्लाकर हटाना या एक
 ओर ले जाना, हाँकना, पुकारना,
 हाँकने का काम दूसरे से कराना ।
 हँकार—(हिं. स्त्री.) जोर से, पुकारना,
 बुलाने की क्रिया, पुकारने के लिये
 संबोधन की ऊँची आवाज, ललकार;
 (मुहा.)—पड़ना—बुलाने के लिये पुकार
 होना ।
 हँकारना—(हिं. क्रि. अ., स.) पुकारना,
 बुलवाना, ललकारना, हँकारना ।
 हँकारा—(हिं. पुं.) पुकार, निमंत्रण, बुलावा ।
 हंगामा—(फा. पुं.) उपद्रव, दंगा, हल्ला,
 कोलाहल ।
 हंडना—(हिं. क्रि. अ.) धूमना-फिरना,
 व्यर्थ मारा-मारा फिरना, छानबीन
 करना, इधर-उधर ढूँढना ।
 हंडा—(हिं. पुं.) पानी रखने का घातु
 का बड़ा पात्र ।
 हँडिया—(हिं. स्त्री.) मिट्टी का लोटे के
 आकार का चौड़े मुँह का पात्र, हाँड़ी,
 इस आकार का काँच का पात्र जिसमें
 मोमवत्ती जलाई जाती है ।
 हंडी—(सं. स्त्री.) हाँड़ी ।
 हंत—(सं. अव्य.) संभ्रम, (विपाद, हर्ष
 आदि) सूचक शब्द ।
 हंतकार—(सं. पुं.) (अतिथि, संन्यासी
 आदि के लिये) निकाला हुआ भोजन ।
 हंतव्य—(सं. वि.) मारने योग्य ।
 हंता—(सं. पुं.) मारनेवाला, हत्यारा ।
 हँयोरी—(हिं. स्त्री.) देखें 'हथेली' ।
 हँयोरा—(हिं. पुं.) देखें 'हथोड़ा' ।
 हँफनि—(हिं. स्त्री.) हाँफने की क्रिया;
 (मुहा.)—मिटाना—सुस्ताना ।
 हंवा, हंभा—(सं. स्त्री.) गाय-बैल के रँभाने
 का शब्द ।

हंस—(सं. पुं.) एक प्रकार के यति जो
 ब्रह्मचर्य से रहते और प्रतिग्रह को स्वीकार
 नहीं करते, एक प्रकार का जलचर
 पक्षी, वक्तक, सारस, गाय का एक भेद, एक
 प्रकार का घोड़ा, प्राणवायु, एक प्रकार
 का योग, सूर्य, आत्मा, परब्रह्म, द्वेष,
 शिव, विष्णु, पर्वत, कामदेव, भैंसा,
 एक वर्णवृत्त का नाम, एक प्रकार
 का नाच, अजपा मन्त्र; (वि.) श्रेष्ठ,
 विशुद्ध; —क—(पुं.) हंस पक्षी, पैर में
 पहनने की विछिया, संगीत में एक
 प्रकार का ताल; —कूट—(पुं.)
 बैल का कूबड़ या डिल्ला;
 —ग—(पुं.) ब्रह्मा; —गति—(स्त्री.)
 हंस के समान सुंदर धीमी चाल,
 वीस मात्राओं के एक छन्द का नाम;
 —गद्गद्वा—(स्त्री.) प्रियमाषिणी स्त्री;
 —गर्भ—(पुं.) एक प्रकार का रत्न;
 —गामिनी—(स्त्री.) हंस के समान
 गति से चलनेवाली स्त्री; —चौपड़—
 (हिं. पुं.) एक प्रकार का प्राचीन
 चौपड़ का खेल; —जा—(स्त्री.) सूर्य की
 कन्या, यमुना; —दाहन—(पुं.) गुग्गुल,
 धूप; —नादिनी—(स्त्री.) मधुर-
 भाषिणी स्त्री; —पदिका—(स्त्री.) राजा
 दुष्यन्त की एक रानी का नाम;
 —पदी—(स्त्री.) गोधापदी नाम की लता;
 —पाद—(पुं.) इंगुर, शिगरिफ;
 —मंगला—(स्त्री.) एक संकर रागिनी
 का नाम; —माला—(स्त्री.) हंसों की
 पक्ति; —यान—(पुं.) हंसवाहन, ब्रह्मा;
 —याना—(स्त्री.) सरस्वती; —रथ—
 (पुं.) ब्रह्मा; —राज—(पुं.) बड़ा हंस,
 एक वृद्धि जो पहाड़ों की चट्टानों में
 पाई जाती है; —स्त—(पुं.)
 हंस का शब्द. एक प्रकार का छन्द
 जिसके प्रत्येक चरण में आठ शब्द होते
 हैं; —लोमश—(पुं.) कसीस; —वंश
 —(पुं.) सूर्य का वंश; —वती—(स्त्री.)
 राजा दुष्यन्त की पत्नी; —वाह,
 —वाहन—(पुं.) ब्रह्मा; —वाहिनी—
 (स्त्री.) सरस्वती; —सुता—(स्त्री.)
 सूर्य की कन्या, यमुना नदी ।
 हँसन—(हिं. स्त्री.) हँसने की क्रिया या
 भाव ।
 हँसना—(हिं. क्रि. अ.) आनन्द के साथ मुख
 से वेग से एक विशेष प्रकार का शब्द
 निकालना, खिलखिलाना, मनोहर जान
 पड़ना, आनन्द मनाना, ठठोली करना,
 किसी का उपहास करना; (मुहा.)

हंसकर बात उड़ाना—अनावश्यक समझकर किसी बात पर ध्यान न देना; हंसते-हंसते—प्रसन्नतापूर्वक; —बोलना—हंसी की बात करना ।

हंसनि—(हिं. स्त्री.) देखें 'हंसी' ।

हंसमुख—(हिं. वि.) प्रसन्नवदन, जिसके मुख से प्रसन्नता झलकती हो, विनोदप्रिया।

हंसली—(हिं. स्त्री.) गरदन के नीचे और छाती के ऊपर की घन्वाकर हड्डी, गले में पहनने का एक मण्डलाकार गहना ।

हंसाई—(हिं. स्त्री.) हंसने की क्रिया या भाव, उपहास, लोकनिन्दा ।

हंसाधिरूढ़—(सं. पुं.) ब्रह्मा ।

हंसाधिरूढ़ा—(सं. स्त्री.) सरस्वती ।

हंसाना—(हिं. क्रि. स.) दूसरों को हंसने में प्रवृत्त करना ।

हंसाय—(हिं. स्त्री.) देखें 'हंसाई' ।

हंसालि—(सं. स्त्री.) एक छंद ।

हंसिका—(सं. स्त्री.) सैंतीस मात्राओं का एक छन्द जिसमें बीसवीं मात्रा पर यति होती है, हंसी ।

हंसिनी—(सं. स्त्री.) हंस की मादा, हंसी ।

हंसिया—(हिं. पुं.) एक धारदार अर्धचन्द्राकार उपकरण जिससे खेत की उपज काटी जाती है, चमड़ा छीलकर चिकना करने का एक औजार, गरदन के नीचे की हड्डी ।

हंसी—(सं. स्त्री.) हंस की मादा, दुधार गाय, वाईस अक्षरों का एक वर्णवृत्त ।

हंसी—(हिं. स्त्री.) हंसने की क्रिया या भाव, ठठोली, विनोदपूर्ण उक्ति, निन्दा;

हंसी-खेल—(पुं.) ठठोली; —उठ्ठा—(पुं.) मजाक; —छूटना—हंसना; —में उड़ाना—किसी (मुहा.); —उड़ाना—निन्दा करना; बात को हंसकर टाल देना; —में ले जाना—मजाक समझना;

—समझना—सहज जानना ।

हंसीय—(सं. वि.) हंस-संबंधी ।

हंसुआ, हंसुवा—(हिं. पुं.) देखें 'हंसिया' ।

हंसोड़—(हिं. वि.) जो सदा हंसता हो, विनोदी ।

हंसोदक—(सं. पुं.) नये मिट्टी के पात्र में भरकर घूप में रखा हुआ जल ।

हंसौर्हा—(हिं. वि.) सदा हंसता हुआ, हंसी से युक्त ।

हंस—(हिं. स्त्री.) आश्चर्य, अचरज ।

हउ—(हिं. सर्व.) देखें 'हौं' ।

हक—(अ. पुं.) सत्य, सच्चाई, उचित, स्वत्व अधिकार; (वि.) ठीक, उचित, न्याय्य, प्राप्य ।

हकतलफी—(अ. स्त्री.) हक मारना, अन्याय ।

हकदार—(फा. वि.) हकवाला, अधिकारी, स्वत्वधारी ।

हकबकाना—(हिं. क्रि. अ.) स्तम्भित होना, घबड़ाना, ठक रह जाना ।

हकला—(हिं. वि.) हकलानेवाला, रक-रककर बोलनेवाला ।

हकलाना—(हिं. क्रि. अ.) बोलने में अटकना, रक-रककर बोलना ।

हकशफा—(फा. पुं.) अपनी भूमि से संलग्न भूमि को खरीदने का अग्राधिकार ।

हकार—(सं. पुं.) 'ह' अक्षर या वर्ण ।

हकीकत—(अ. स्त्री.) असलीयत, यथार्थता, वृत्तान्त, हालत, सच बात ।

हकीकी—(अ. वि.) असली, सच्चा ।

हकीम—(अ. पुं.) ज्ञानी, बुद्धिमान्, यूनानी चिकित्सक ।

हकीमी—(अ. स्त्री.) हकीम का काम, पेशा आदि ।

हक्काबक्का—(हिं. वि.) घबड़ाया हुआ, भौचक ।

हक्कार—(सं. पुं.) चिल्लाकर बुलाने का शब्द, पुकार ।

हगना—(हिं. क्रि. अ.) मलोत्सर्ग करना, मल-त्याग करना, दवाव के कारण कोई वस्तु दे देना ।

हगाना—(हिं. क्रि. स.) हगने की क्रिया में सहायता देना ।

हगास—(हिं. स्त्री.) मल-त्याग करने की इच्छा या आवश्यकता ।

हगोड़ा—(हिं. वि.) बहुत हगनेवाला ।

हचकना—(हिं. क्रि. अ.) धक्के से ऊपर-नीचे हिलना-डोलना ।

हचका—(हिं. पुं.) धक्का, झोंका ।

हचकाना—(हिं. क्रि. स.) झोंका देकर हिलाना ।

हचकोला—(हिं. पुं.) वह धक्का जो गाड़ी आदि के हिलने-डोलने से लगे, हचका ।

हचना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'हचकना' ।

हजम—(अ. पुं.) पाचन-क्रिया, गवन ।

हजरत—(अ. पुं.) दरवार, हुजूर, सम्मान-सूचक संबोधन ।

हजाम—(हिं. पुं.) नाई, नापित ।

हजामत—(अ. स्त्री.) बाल काटना, दाढ़ी बनाना, क्षौर ।

हजार—(फा. वि.) सहस्र ।

हजारी—(फा. वि.) हजार से संबद्ध ।

हजारों—(हिं. वि.) कई सहस्र ।

हज्ज—(अ. पुं.) कावे की तीर्थयात्रा, संकल्प ।

हज्जाम—(हिं. पुं.) बाल बनानेवाला, नाई, नाक ।

हट—(हिं. पुं.) देखें 'हठ' ।

हटक, हटकन—(हिं. स्त्री.) वर्जन, गायों तथा अन्य चौपायों को हाँकने की छड़ी ।

हटकना—(हिं. क्रि. स.) निषेध करना, मना करना, चौपायों को किसी ओर जाने से रोककर दूसरी ओर हाँकना ।

हटका—(हिं. पुं.) किवाड़ों को खुलने से रोकने के लिये लगाया हुआ काठ, ब्योड़ा ।

हटकि—(हिं. अव्य.) अकारण ।

हटतार—(हिं. पुं.) माला का सूत ।

हटताल—(हिं. स्त्री.) देखें 'हड़ताल' ।

हटना—(हिं. क्रि. अ.) एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाना, सरकना, खिसकना, पीछे की ओर जाना, प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहना, दूर होना, किसी बात का नियत समय के बाद होना, सामने से दूर होना, विमुख होना, जी चुराना; —उड़ी—(स्त्री.) एक प्रकार का मलखंब का व्यायाम ।

हटवया, हटवार—(हिं. पुं.) हाट में बैठकर सौदा बेचनेवाला, दुकानदार ।

हटवाई—(हिं. स्त्री.) क्रय-विक्रय, सौदा मोल लेना या बेचना ।

हटवाना—(हिं. क्रि. स.) हटाने का काम दूसरे से कराना ।

हटाना—(हिं. क्रि. स.) एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना, खिसकाना, स्थान छोड़ने के लिये विवश करना, किसी स्थान से दूर करना, प्रतिज्ञा से विचलित करना, डिगाना ।

हट्टा—(हिं. पुं.) दुकानदार, अन्न तौलनेवाला, घया ।

हट्टीती—(हिं. स्त्री.) शरीर की गठन ।

हट्ट—(सं. पुं.) हाट, बाजार ।

हट्टविलासिनी—(सं. स्त्री.) वेश्या, रंडी ।

हट्टा-कट्टा—(हिं. वि.) हष्ट-पुष्ट, मोटा-ताजा ।

हट्टाध्यक्ष—(सं. पुं.) हाट का अध्यक्ष ।

हठ—(सं. पुं.) दुराग्रह, टेक, दृढ़ प्रतिज्ञा; (मुहा.)—पकड़ना—दुराग्रह करना; —रखना—किसी के हठ को पूरा करना; —घर्म—(पुं.) दुराग्रह, कट्टरपन; —घर्मो—(स्त्री.) अपनी बात पर अड़नेवाला, अपने मत, हठ आदि पर अड़ने की प्रकृति; —योग—(पुं.) वह योग जिसमें आसन, सिद्धि, प्राणायाम, नेति, धौति आदि क्रियाओं से शरीर की शुद्धि की जाती है तथा चित्त को एकाग्र कर परमात्मा के ध्यान में लगाया जाता है; —शील—(वि.) हठी ।

हठना—(हि. क्रि. अ.) दुराग्रह करना।
 हठात्—(सं. अव्य.) हठपूर्वक, दुराग्रह से, वनपूर्वक; —कार—(पुं.) बलात्कार।
 हठिका—(सं. स्त्री.) कोलाहल।
 हठी—(सं. वि.) हठ करनेवाला।
 हठीला—(हि. वि.) अपनी प्रतिज्ञा का पक्का, धीर, वीर, दृढसंकल्प।
 हड़—(सं. स्त्री.) एक बड़ा वृक्ष जिसके फल औषधों में प्रयुक्त होते हैं, एक प्रकार का आम्रपण जो नाक में पहना जाता है।
 हड़क—(हि. स्त्री.) पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न जल के लिये बड़ी व्याकुलता, किसी वस्तु को प्राप्त करने की झक, उत्कट अभिलाषा।
 हड़कना—(हि. क्रि. अ.) व्याकुल होना, लालायित होना।
 हड़काना—(हि. क्रि. स.) किसी के पीछे लगाना, लहकाना, तरसाना।
 हड़गोला—(हि. पुं.) बगले की जाति का एक पक्षी।
 हड़जोड़—(हि. पुं.) एक प्रकार की लता जो भीतरी चोट के स्थान पर लगाई जाती है।
 हड़ताल—(हि. स्त्री.) मजदूरों आदि द्वारा किसी बात पर असन्तोष प्रकट करने के लिये सामूहिक रूप से काम-बंधा बंद करना।
 हड़ना—(हि. क्रि. अ.) तौल में जांचा जाना।
 हड़प—(हि. पुं.) निगला हुआ ग्रास, पेट में डाला हुआ कौर, अनुचित रीति से ले लेना।
 हड़पना—(हि. क्रि. स.) खा जाना, दूसरे की वस्तु को अनुचित रूप से ले लेना।
 हड़-फटन—(हि. स्त्री.) हड़िडियों की व्यथा।
 हड़फूटनी—(हि. स्त्री.) चमगादड़।
 हड़फोड़—(हि. पुं.) एक प्रकार की चिड़िया।
 हड़बड़—(हि. स्त्री.) उतावली, आतुरता का ढंग।
 हड़बड़ाना—(हि. क्रि. अ., स.) शीघ्रता के कारण घबड़ाहट से कोई काम करना, आतुर होना, किसी को जल्दी काम करने के लिए घबड़ाहट में डालना।
 हड़बड़िया—(हि. वि.) उतावला।
 हड़बड़ो—(हि. स्त्री.) उतावली, आतुरता के कारण घबड़ाहट।
 हड़हड़ाना—(हि. क्रि. अ., स.) उतावली से दूसरे को व्यग्र करना, हड़-हड़ शब्द होना।
 हड़हा—(हि. पुं.) जंगली बैल; (वि.) अति दुर्बल, जिसके शरीर में केवल हड्डी रह गई हो।
 हड़ा—(हि. पुं., अव्य.) पक्षियों को उड़ाने

का शब्द जो खेत के रखवाले करते हैं।
 हड़ावल—(हि. स्त्री.) हड़िडियों का समूह, हड़डी का ढांचा, ठठरी, हड़िडियों की माला।
 हड़ि—(सं. पुं.) प्राचीन काल की काठ की वेड़ी।
 हड़ोला—(हि. वि.) जिसमें हड़डी हो, हड़हा।
 हड़डा—(हि. पुं.) एक तरह का कीड़ा, मिड़, बरें।
 हड़डी—(हि. स्त्री.) अस्थि, हाड़; (मुहा.) हड़िडियाँ निकल आना—अति दुर्बल हो जाना; —तोड़ना—बहुत मारना-पीटना; पुरानी हड़डी—वृद्ध मनुष्य, वह जिसको भीतरी बल हो।
 हल—(सं. वि.) वध किया हुआ, मारा हुआ, तंग किया हुआ, छला हुआ, पीड़ित, ग्रस्त, लगा हुआ, निरुद्ध, गुणा किया हुआ, विगाड़ा हुआ, आशाहीन; —ज्ञान—(वि.) ज्ञानशून्य, अचेत; —दैव—(वि.) भाग्यहीन, अभाग्य; —पुत्र—(वि.) जिसका पुत्र मर गया हो; —प्रभ—(वि.) प्रभारहित; —प्रभाव—(वि.) जिसका प्रभाव न रह गया हो; —बुद्धि—(वि.) बुद्धिहीन, मूर्ख; —भाग्य—(वि.) अभाग्य; —मूर्ख—(वि.) बहुत बड़ा मूर्ख; —वीर्य—(वि.) शक्तिहीन, बलहीन; —स्वर—(वि.) स्वर-भंगयुक्त, जिसकी बोली बैठ गई हो।
 हलना—(हि. क्रि. स.) वध करना, मार डालना, मारना-पीटना।
 हलवाना—(हि. क्रि. स.) हलने का काम दूसरे से कराना, पिटवाना।
 हला—(सं. स्त्री.) व्यभिचारिणी स्त्री; (हि. क्रि. अ.) था।
 हलादर—(सं. वि.) जिसका आदर घट गया हो।
 हलाध्वर—(सं. पुं.) शिव, महादेव।
 हलाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'हलवाना'।
 हलाश—(सं. वि.) आशारहित, निराश, दुःखी, दीन।
 हलाहत—(सं. वि.) मृत और घायल।
 हति—(सं. स्त्री.) वध, हत्या।
 हतोत्साह—(सं. वि.) जिसको कुछ करने का उत्साह न रह गया हो, जिसको किसी काम का उमंग न हो।
 हतौजस—(सं. वि.) तेजहीन, दुर्बल।
 हत्या—(हि. पुं.) किसी यन्त्र का वह भाग जो हाथ से पकड़ा जाता है, मूठ, लकड़ी का उपकरण जिससे खेत की नालियों का पानी क्यारी में चारों ओर उलीचा जाता है, निवार बुनने का

एक यन्त्र, केले के फलों का गुच्छा, दीवाल पर लगाया हुआ हाथ का छापा; ईट या पत्थर का टुकड़ा जिस पर हाथ रखकर दंड किया जाता है; —जड़ी—(स्त्री.) एक प्रकार का सुगन्धित पत्तियोंवाला का पौधा।
 हत्थी—(हि. स्त्री.) शस्त्र की मूठ।
 हत्थे—(हि. अव्य.) हाथ में; (मुहा.) —चढ़ना—वश में होना।
 हत्था—(सं. स्त्री.) वध, झंझट, वखेड़ा; (मुहा.) —लगना—मार डालने का पाप लगाना।
 हत्थार, हत्थारा—(हि. पुं.) हत्या करनेवाला।
 हत्थारी—(हि. स्त्री.) हत्या करनेवाली, हत्या करने का पाप।
 हथ—(हि. पुं.) "हाथ" तथा क्वचित् "हाथी" शब्द का संक्षिप्त रूप, (इसका व्यवहार समस्त-पदों में होता है); —उधार—(पुं.) वह ऋण जो थोड़े दिनों के लिये बिना लिखा-पढ़ी, के लिया या दिया जाय, हथफेर; —कंडा—(पुं.) हस्तलाघव, गुप्त चाल; —कड़ी—(स्त्री.) कैदियों के हाथों में पहनाने का लोहे की वेड़ी; —कल—(पुं.) पंच ढीली करने या कसने का एक औजार; —कोड़ा—(पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति; —छुट—(वि.) जिसको तुरत किसी को मार देने की आदत हो; —नाल—(पुं.) वह तोप जो हाथी की पीठ पर रखकर चलाई जाती है; —फूल—(पुं.) एक प्रकार की अग्निक्रीड़ा, हथेली के दूसरे ओर पहनने का एक प्रकार का गहना; —फेर—(पुं.) प्रेम से शरीर पर हाथ फेरना, चतुराई के साथ किसी का धन उड़ा लेना, चुपचाप किसी का माल हरण करना, देखें 'हथ-उधार'; —बेंटा—(पुं.) गन्ना काटने की कुदाली; —लेवा—(पुं.) विवाह-संस्कार में वर तथा कन्या का हाथ अपने हाथ में लेना, पाणिग्रहण; —वांस—(पुं.) नाव खेने की सामग्री; —सार—(स्त्री.) हाथी वाँधने का स्थान, फीलखाना।
 हथनी—(हि. स्त्री.) मादा हाथी, हथिनी।
 हथवांसना—(हि. क्रि. स.) व्यवहार में लाना।
 हथाहथी—(हि. अव्य.) हाथोहाथ, झटपट।
 हथिनो—(हि. स्त्री.) मादा हाथी, हथनी।
 हथिया—(हि. पुं.) हस्त नक्षत्र।
 हथियाना—(हि. क्रि. स.) अधिकार में करना, हाथ में लेना, बोखा देकर दूसरे की वस्तु ले लेना, हाथ से पकड़ना।

हथियार—(हि. पुं.) कोई वस्तु बनाने का औजार, अस्त्र-शस्त्र, लिंगोद्भिय; —बंद—(वि.) शस्त्रधारी, जो हथियार धारण किये हो।

हुई रोटी—(हि. स्त्री.) गीले आटे की लोई को हथेलियों से दवाकर बनाई हुई रोटी।

हथैरा—(हि. पुं.) पानी उलीचने का उपकरण, हत्या।

हथैरी—(हि. स्त्री.) देखें 'हथेली'।

हथेली—(हि. स्त्री.) हाथ की कलाई के आगे वह चौड़ा भाग जिसमें उँगलियाँ होती हैं, करतल; (मुहा.)—पर जान होना—प्राण जाने का भय होना।

हथौरी—(हि. स्त्री.) देखें 'हथेली'।

हथौटी—(हि. स्त्री.) हस्तकौशल, कोई काम करने का ढंग।

हथौड़ा—(हि. पुं.) ठोंकने के काम आनेवाला लोहे का एक उपकरण।

हथौड़ी—(हि. स्त्री.) छोटा हथौड़ा।

हथौना—(हि. पुं.) वर और कन्या के हाथ में मिठाई रखने की रीति।

हथ्यार—(हि. पुं.) देखें 'हथियार'।

हद—(अ. स्त्री.) सीमा, किनारा, नियत स्थान; —बंदी—(स्त्री.) हद का निर्धारण।

हद—(अ. स्त्री.) देखें 'हद'।

हनन—(सं. पुं.) वध, मारण, आघात, गुणा करने की क्रिया।

हनना—(हि. क्रि. स.) वध करना, मार डालना, प्रहार करना, पीटना, हथौड़े से ठोकना।

हनवाना—(हि. क्रि. स.) हनने का कार्य दूसरे से कराना।

हननीय—(सं. वि.) वध करने योग्य।

हनील—(सं. पुं.) केतकी, केवड़ा।

हनु—(सं. पुं.) ठुड्ढी, चिबुक।

हनुका—(सं. स्त्री.) जवड़ा।

हनुग्रह—(सं. पुं.) दाढ़ बैठ जाने का रोग।

हनुमंत—(हि. पुं.) हनुमान्।

हनुमंती—(हि. स्त्री.) मलखंभ का एक व्यायाम।

हनुमान्—(सं. वि.) जवड़ेवाला; (पुं.) एक वीर वानर जो रामचन्द्र का परम भक्त था; —बैठक (स्त्री.) एक प्रकार की कसरत।

हनुल—(सं. वि.) पुष्ट दाढ़वाला।

हनुस्तंभ—(सं. पुं.) हनुग्रह रोग।

हनु—(सं. स्त्री.) हनु, ठुड्ढी; —फाल—(पुं.) एक मात्रिक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में बारह मात्राएँ होती हैं; —मत्,

—मान्—(पुं.) हनुमान्।

हनष—(सं. पुं.) राक्षस।

हनोद—(हि.पुं.) हिंडोल राग का एक भेद।

हप—(हि. पुं.) मुँह में झट से लेकर ओठों को बंद करने का शब्द; (मुहा.)—कर

जाना—मुँह में डालकर झट से खा जाना।

हपटाना—(हि. क्रि. अ.) हाँफना।

हवकना—(हि. क्रि. स.) खाने या काटने के लिये झट से मुख खोलना, दाँत से काटना।

हवर-हवर—(हि. अव्य.) हड़बड़ी के साथ, उतावली से।

हवराना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'हड़वड़ाना'।

हवशी—(अ. पुं.) नियोजित का व्यक्ति।

हवेली—(हि. स्त्री.) देखें 'हवेली'।

हव्या-उव्या—(हि. पुं.) बच्चों का तेजी से साँस चलने का रोग।

हम—(हि. सर्व.) उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम "मै" का बहुवचन रूप; (पुं.) अहंकार, अभिमान, "हम" का भाव।

हमता—(हि. पुं.) अहंकार।

हमरा (रो)—(हि. सर्व.) देखें 'हमारा'।

हमहमी—(हि. स्त्री.) देखें 'हमाहमी'।

हमारा—(हि. सर्व.) 'हम' का सम्बन्धकारक रूप।

हमाहमी—(हि. स्त्री.) स्वार्थपरता, अहंकार, अपने स्वार्थ-साधन का प्रयत्न।

हमें—(हि. सर्व.) "हम" का कर्म और सम्प्रदान कारक रूप, हम को।

हमेव—(हि. पुं.) अभिमान, अहंकार।

हमेशा—(फा. अव्य.) सर्वदा।

हमें—(हि. सर्व.) देखें 'हमें'।

हम्मीर—(सं. पुं.) संपूर्ण जाति का एक संकर राग; —नट—(पुं.) एक संकर राग का नाम।

हयंद—(हि. पुं.) अच्छा सुंदर घोड़ा।

हय—(सं. पुं.) अश्व, घोड़ा, चार मात्राओं का एक छन्द, इन्द्र का एक नाम, धनु

राशि, कविता में सात की मात्रा सूचित करने का शब्द; —कातरा—(स्त्री.)

वृक्ष विशेष; —गंध—(पुं.) काला नमक; —गंधा—(स्त्री.) असगन्ध; —गूह—

(पुं.) अश्वशाला; —ग्रीव—(पुं.) एक असुर का नाम, विष्णु के चौबीस अवतारों में से एक; —ग्रीवा—(स्त्री.) दुर्गा; —घ्न—

(पुं.) कर्खीर वृक्ष; —द्विष—(पुं.) भैंसा; —नाल—(हि. स्त्री.) घोड़ों द्वारा खींची जानेवाली तोप; —प्रिय—(पुं.) यव, जौ;

—प्रिया—(स्त्री.) असगन्ध; —मारक—(पुं.) कनेर, पीपल का वृक्ष; —मुख—

(पुं.) एक राक्षस का नाम; —मेघ—

(पुं.) अश्वमेघ यज्ञ; —वाहन—(पुं.) कुबेर; —विद्या—(स्त्री.) अश्व-विद्या; —वैरी—(पुं.) भैंसा; —शाला—(स्त्री.) अश्वशाला, घुड़साल; —शास्त्र—(पुं.) अश्वशास्त्र; —शिक्षा—(स्त्री.) अश्वों की शिक्षा।

हयन—(सं.पुं.) ढकी हुई गाड़ी।

हयना—(हि. क्रि. स.) हत्या करना, मार डालना, वध करना, नष्ट करना।

हया—(सं. स्त्री.) असगन्ध; (अ. स्त्री.) लज्जा।

हयागार—(सं. पुं.) अश्वशाला।

हयानन—(सं. पुं.) देखें 'हयग्रीव'।

हयारोह—(सं.पुं.) अश्वारोही, घुड़सवार।

हयालय—(सं. पुं.) अश्वशाला।

हयोत्तम—(सं. पुं.) उत्तम घोड़ा।

हर—(सं. पुं.) शिव, महादेव, अग्नि, गवदा, हरण, भाग, गणित में किसी संख्या का भाजक, भिन्न में नीचे की संख्या, छप्पय का एक भेद, राग का

पहला भेद; (वि.) छीनने या लूटनेवाला, मिटानेवाला, नाश करनेवाला, दूर करनेवाला, वाहक, ले जानेवाला।

हर—(फा. वि.) प्रत्येक।

हरएँ—(हि. अव्य.) धीरे-धीरे।

हरक—(सं. पुं.) शिव, महादेव; (वि.) हरण करनेवाला।

हरकत—(अ. स्त्री.) हिलना-डोलना, गति, चाल, चेष्टा।

हरकना—(हि. क्रि. स.) देखें 'हटकना'।

हरकारा—(हि. पुं.) सन्देश अथवा चिट्ठी-पत्री ले जानेवाला।

हरकेस—(हि. पुं.) एक प्रकार का अगहनिया घान।

हरख—(हि. पुं.) देखें 'हर्ष'।

हरखना—(हि. क्रि. अ.) प्रसन्न होना।

हरखाना—(हि. क्रि. स.) प्रसन्न करना।

हरगिज—(फा. अव्य.) कभी, किसी हालत में (नहीं के साथ प्रयुक्त)।

हरगौरी—(सं. स्त्री.) शिव की अर्चनारीश्वर मूर्ति।

हरचंद्रामणि—(सं. पुं.) चन्द्रमा।

हरज—(अ. पुं.) हानि, क्षति, समय की वरवादी।

हरजा—(हि. पुं.) हानि, हरज।

हरजाना—(फा. पुं.) क्षतिपूर्ति।

हरट्ट—(हि. वि.) हृष्ट-पुष्ट।

हरण—(सं. पुं.) संहार, नाश, दूर करना, हटाना, लूटना, छीनना, खालता हुआ

जल, कौड़ी, भुज, वाहु, युक्त, ग्रहण करना,

भाग देना, विभाम करना, ले जाना ।
 हरणीय—(सं. वि.) हरण करने योग्य, छीनने लायक ।
 हरता—(हि. वि.) देखें 'हर्ता';—घरता—(पुं.) जिसको रक्षा और नाश (दोनों करने) का अधिकार हो, स्वामी, पूर्ण अधिकारी ।
 हरतार, हरताल—(हि. स्त्री.) पीले रंग का एक खनिज पदार्थ; (मुहा.)—लगाना—नष्ट करना, मिटा देना ।
 हरताली—(हि. वि.) हरताल के रंग का; (स्त्री.) ऐसा रंग ।
 हरतेज—(सं. पुं.) पारद, पारा ।
 हरद—(हि. स्त्री.) हरिद्रा, हलदी ।
 हरदा—(हि. पुं.) अनाज की पत्तियों को खा जानेवाला एक कीड़ा ।
 हरदिया—(हि. वि.) हल्दी के रंग का, पीला ।
 हरदी—(हि. स्त्री.) हरिद्रा, हलदी ।
 हरद्वार—(हि. पुं.) देखें 'हरिद्वार' ।
 हरनर्तक—(सं. पुं.) एक प्रकार का छन्द ।
 हरना—(हि. क्रि. अ., स.) किसी की वस्तु उसकी इच्छा के विरुद्ध ले लेना, छीनना, लूटना, मिटाना, दूर करना, नाश करना, ले जाना, पराजित होना, शिथिल होना; (मुहा.) प्राण हरना—मार डालना; मन हरना—लुभाना ।
 हरना—(हि. पुं.) देखें 'हरिन' ।
 हरनाक (कु) स—(हि. पुं.) देखें 'हिरण्यक-शिपु' ।
 हरनाच्छ—(हि. पुं.) देखें 'हिरण्याक्ष' ।
 हरनी—(हि. स्त्री.) मादा हरिन, भृगी ।
 हरनेत्र—(सं. पुं.) शिव के नेत्र, तीन की संख्या ।
 हरनीटा—(हि. पुं.) हरिन का बच्चा ।
 हरपा—(हि. पुं.) सुनारों का तराजू रखने का डब्बा ।
 हरपुर—(सं. पुं.) शिवलोक, शिव की पुरी ।
 हरप्रिय—(सं. पुं.) घटूरा, शिव का प्रिय भक्त ।
 हरफारेवड़ी, हरफार्योरी—(हि. स्त्री.) कमरख की जाति का एक वृक्ष जिसके सिंघाड़े के समान फल खटमोठे होते हैं ।
 हरबर—(हि. अव्य.) हड़बड़ी के साथ, शीघ्र ।
 हरबराना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'हड़बड़ाना' ।
 हरबीज—(सं. पुं.) पारद, पारा ।
 हरबींग—(हि. वि.) गँवार, अक्खड़, मूर्ख ।
 हरभूले—(हि. स्त्री.) एक प्रकार का घटूरा ।
 हरम—(अ. पुं.) अंतःपुर ।
 हरमजदगी—(फा. स्त्री.) हरामजादे का काम, आदत आदि ।

हररूप—(सं. पुं.) शिव, महादेव ।
 हरवल—(हि. स्त्री.) हलवाहे को विना ध्याज के दिया हुआ घन ।
 हरवली—(हि. स्त्री.) सेना की अध्यक्षता ।
 हरवल्लभ—(सं. पुं.) ताल के मुख्य साठ भेदों में से एक भेद ।
 हरवा—(हि. पुं.) देखें 'हार' ।
 हरवाना—(हि. क्रि. स.) हड़बड़ाना, शीघ्रता करना, हराना ।
 हरवाल—(हि. पुं.) सुरानी नाम की घास ।
 हरवाहन—(सं. पुं.) शिव की सवारी, बैल ।
 हरवाहा—(हि. पुं.) हल चलानेवाला श्रमिक, हलवाहा ।
 हरवाही—(हि. स्त्री.) हलवाहे का काम या वेतन ।
 हरशंकरी—(हि. स्त्री.) पीपल और पाकड़ का संगलन वृक्ष ।
 हरशेखरा—(सं. स्त्री.) गंगा ।
 हरष—(हि. पुं.) देखें 'हर्ष', प्रसन्नता ।
 हरषना—(हि. क्रि. अ.) प्रसन्न होना ।
 हरषाना—(हि. क्रि. अ., स.) प्रसन्न होना, हर्षित करना, प्रसन्न करना ।
 हरषित—(हि. वि.) हर्षित, प्रसन्न ।
 हरसना—(हि. क्रि. अ.) हरखना, प्रसन्न होना ।
 हरसाना—(हि. क्रि. स.) देखें 'हरषाना' ।
 हरसिंघार—(हि. पुं.) पारिजात, परजाता ।
 हरसूनु—(सं. पुं.) कार्तिकेय ।
 हरहा—(हि. पुं.) हैरान करनेवाला पशु, वृक, भेड़िया;—ई—(स्त्री.) वह अक्खड़ गाय जो इधर-उधर भागती फिरती है ।
 हरहार—(सं. पुं.) शिव का हार, सर्प ।
 हरहूरा—(सं. स्त्री.) हरहुर, द्राक्षा, दाख ।
 हरस—(हि. पुं.) मन्द ज्वर ।
 हरा—(हि. वि.) हरित, घास या पत्ती के रंग का, प्रसन्न, प्रफुल्ल, सजीव, जो सूखा या मरा न हो, (फल) जो पका न हो; (पुं.) हरित वर्ण, चौपायों को खिलाने का हरा चारा; (स्त्री.) पार्वती;—पन—(पुं.) हरा होने का भाव;—भरा—(वि.) प्रफुल्ल, ताजा ।
 हराद्वि—(सं. पुं.) कैलास पर्वत ।
 हराना—(हि. क्रि. स.) शत्रु को युद्ध में पराजित करना, शत्रु को पीछे हटाना, प्रतिद्वंद्वी को परास्त करना, उद्योग शिथिल करना, थकाना ।
 हराम—(अ. वि.) निषिद्ध, वजित, त्याज्य, धर्मविरुद्ध; (पुं.) व्यभिचार;—खोर—(पुं.) हराम का माल खानेवाला;—खोरी—(स्त्री.) हरामखोर का काम;—जादा—(पुं.) जारज, दोगला;—जादी—(स्त्री.) दोगली ।

हरामी—(अ. वि.) हराम का जनमा हुआ, दुष्ट, पाजी ।
 हरारत—(अ. स्त्री.) हल्का ज्वर, सुस्ती ।
 हरावर, हरावरु—(सं. पुं.) सेना का अगला भाग, ठाँों का सरदार जो आगे-आगे चलता है ।
 हरावास—(सं. पुं.) शिव का आवास, कैलास ।
 हराहर—(हि. पुं.) देखें 'हलाहल' ।
 हरि—(सं. पुं.) विष्णु, सिंह, सुग्गा, सर्प, वाँस, मूँग, श्रीरामचन्द्र, अठारह वर्षों का एक छन्द, गरुड़ का एक पुत्र, शृगाल, सिंह राशि, हंस, अग्नि, कोयल, मोर, बंदर, मेढक, चंद्रमा, घोड़ा, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, शिव, यमराज, किरण, एक संवत्सर का नाम; (वि.) पीला, हरा, भूरा;—कथा—(स्त्री.) भगवान् या उनके अवतारों के चरित्र का वर्णन;—कर्म—(पुं.) यज्ञ;—कीर्तन—(पुं.) भगवान् के अवतारों का स्तुति-गान, भगवद्भजन;—केश—(पुं.) शिव, विष्णु;—क्षेत्र—(पुं.) हिमालय का एक प्राचीन पुण्य-स्थान;—गंध—(पुं.) पीला चन्दन;—गीतिका—(स्त्री.) अट्ठाईस मात्राओं का एक छन्द;—चंदन—(पुं.) एक प्रकार का चन्दन, पीला चन्दन, चांदनी, कमल, केशर;—चर्म—(पुं.) व्याध-चर्म;—चाप—(पुं.) इन्द्रधनुष;—जटा—(स्त्री.) रावण की अनुचरी एक राक्षसी का नाम;—जन—(पुं.) ईश्वर का भक्त, अछूत;—जीवक—(पुं.) चने का पौधा;—ताल—(पुं.) पीत वर्ण की एक उपधातु, हरताल;—तालिका—(स्त्री.) भाद्रपद शुक्ला तृतीया, स्त्रियों का तीज का व्रत;—ताली—(स्त्री.) आकाश-रेखा, तलवार की धार का भाग;—दिन—(पुं.) श्रीहरि का दिन, एकादशी;—दिश—(स्त्री.) पूर्व दिशा;—देव—(पुं.) श्रवण नक्षत्र;—द्वार—(पुं.) सहारनपुर के अंतर्गत एक प्राचीन तीर्थ-स्थान जहाँ पहाड़ों से निकलकर गंगाजी समतल भूमि में आई हैं;—धनुष—(पुं.) इन्द्रधनुष;—धाम—(पुं.) विष्णुलोक, वैकुण्ठ;—नक्षत्र—(पुं.) श्रवण नक्षत्र;—नख—(पुं.) सिंह या वाघ का नख;—नाथ—(पुं.) वानरों में श्रेष्ठ, हनुमान्;—नाम—(पुं.) भगवान् का नाम;—पद—(पुं.) विष्णुलोक, वैकुण्ठ, एक छन्द जिसके पहले तथा तीसरे चरणों में सोलह तथा दूसरे और चौथे चरणों में ग्यारह मात्राएँ होती हैं;—पर्ण—

(पुं.) कृष्ण चन्दन; -पुर-(पुं.) विष्णु-लोक, वैकुण्ठ; -पैड़ी-(हिं. स्त्री.) हरिद्वार तीर्थ में गंगा पर एक विशेष घाट; -प्रबोध-(पुं.) कार्तिक शुक्ला एकादशी; -प्रिय-(पुं.) कदम्ब वृक्ष, कनेर, काला चंदन; -प्रिया-(स्त्री.) लक्ष्मी, तुलसी, द्वादशी तिथि, मधु, पृथ्वी, लाल चन्दन, एक मानिक छन्द का नाम; -प्रीता-(स्त्री.) ज्योतिष में एक मूर्त का नाम; -बीज-(पुं.) हरताल; -बोधिनी-(स्त्री.) कार्तिक शुक्ला एकादशी; -भक्त-(पुं.) विष्णु का भक्त, ईश्वर का प्रेमी; -भक्ति-(स्त्री.) ईश्वर में प्रेम; -भुज्-(पुं.) सर्प, साँप; -मंथ-(पुं.) अग्निमंथ का वृक्ष जिसकी लकड़ी को रगड़कर आग जलाई जाती है; -मंदिर-(पुं.) विष्णु का मंदिर; -मेघ-(पुं.) अश्व-मेघ यज्ञ; -यान-(पुं.) गरुड़; -योजन-(पुं.) रथ में घोड़े जोतना; -योनि-(पुं.) ब्रह्मा; -लीला-(स्त्री.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चौदह अक्षर होते हैं; -लोक-(पुं.) विष्णुलोक, वैकुण्ठ; -वंश-(पुं.) वह ग्रन्थ जिसमें श्रीकृष्ण और उनके वंश का विस्तृत वर्णन लिखा है; -वल्लभ-(पुं.) मुचकुन्द का वृक्ष; -वल्लभा-(स्त्री.) लक्ष्मी, तुलसी; -वास-(पुं.) अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष; -वासर-(पुं.) रविवार, एकादशी और द्वादशी-ये दोनों तिथियाँ; -वाहन-(पुं.) गरुड़, इन्द्र, सूर्य; -बीज-(पुं.) हरिताल, हरताल; -व्रत-(पुं.) भगवान् श्रीहरि के निमित्त किया जानेवाला व्रत; -शयनी-(स्त्री.) आपाढ़ शुक्ला एकादशी; -शर-(पुं.) शिव, महादेव; -सं-कीर्तन-(पुं.) श्रीहरि का नामोच्चारण; -सुत-(पुं.) प्रद्युम्न, अर्जुन; -हृद्य-(पुं.) इन्द्र, गणेश, कार्तिकेय, सूर्य; -हर क्षेत्र-(पुं.) बिहार प्रान्त का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान।

हरिअर-(हिं. वि.) हरित, हरा।
 हरिअरी-(हिं. स्त्री.) हरा होने का भाव, हरियाली।
 हरिआना-(हिं. वि. अ.) हरा होना।
 हरिआली-(हिं. स्त्री.) घास, पेड़-पौधों आदि का विस्तार, हरिअरी।
 हरिण-(सं. पुं.) मृग, कुरंग, दिन, शिव, विष्णु, सूर्य, हंस, भूरा रंग; (वि.) भूरे रंग का; -क-(पुं.) हरिन का वच्चा;

-कलंक-(पुं.) चन्द्रमा; -नयना-(स्त्री.) हरिण के समान सुंदर आँखों-वाली स्त्री; -नर्तक-(पुं.) किलर; -प्लुता-(स्त्री.) एक छन्द जिसके प्रत्येक चरण में अठारह अक्षर होते हैं; -लक्षण-(पुं.) चन्द्रमा; -लांछन-(पुं.) चन्द्रमा; -हृद्य-(वि.) भीरु, डरपोक।
 हरिणाक्ष-(सं. वि.) हरिण के समान आँखोंवाला।
 हरिणाक्षी-(सं. वि., स्त्री.) हरिण के समान नेत्रोंवाली।
 हरिणी-(सं. स्त्री.) मृगी, मादा हरिन, सुवर्ण की प्रतिमा, दूर्वा, दूब, कामशास्त्र के अनुसार स्त्रियों के चार भेदों में से एक, सत्रह वर्णों के एक वर्णवृत्त का नाम, पीली चमेली, मजीठ, विजया, भाँग, तरुणी।
 हरिल्-(सं. वि.) हरा, गाढ़े पीले रंग का; (पुं.) सूर्य के घोड़े का नाम, विष्णु, सूर्य, सिंह, हल्दी, पन्ना, एक प्रकार का तृण।
 हरित-(सं. वि.) हरे रंग का, भूरा, वदामी; (पुं.) सेना, हरियाली, शाक-भाजी, कश्यप के एक पुत्र का नाम; -नेत्र-(पुं.) उल्लू; -मणि-(पुं.) मर-कतमणि, पन्ना।
 हरिता-(सं. स्त्री.) हरिद्रा, हल्दी, दूब, भरे रंग का अंगूर।
 हरिताश्म-(सं. पुं.) तुल्य, तृतिया, पन्ना।
 हरितोपल-(सं. पुं.) मरकत मणि, पन्ना।
 हरिदश्व-(सं. पुं.) सूर्य, अर्क वृक्ष।
 हरिद्र-(सं. पुं.) पीला चन्दन; -क-(पुं.) देखें 'हरिद्र'।
 हरिद्रा-(सं. स्त्री.) हल्दी।
 हरिद्राभ-(सं. पुं.) पीला।
 हरिद्रा-राग-(सं. पुं.) साहित्य में प्रेम या राग का एक भेद, वह प्रेम जो हल्दी के रंग के समान अस्थायी हो।
 हरिन-(हिं. पुं.) खुर और सींगवाला एक प्रसिद्ध वन्य चौपाया, हरिण, मृग।
 हरिनाकुश-(हिं. पुं.) देखें 'हिरण्यकशिपु'।
 हरिनाक्ष-(हिं. पुं.) देखें 'हिरण्याक्ष'।
 हरिनी-(सं. स्त्री.) मादा हरिन।
 हरिन्मणि-(सं. पुं.) मरकत मणि, पन्ना।
 हरियर-(हिं. वि.) हरे रंग का, हरा।
 हरियाई-(हिं. स्त्री.) हरियाली।
 हरियाना-(हिं. क्रि. अ.) देखें 'हरिआना', हरा होना।
 हरियाली-(हिं. स्त्री.) हरे-हरे पेड़-पौधों का समूह या विस्तार, हरिआली, हरा

चारा जो चौपायों को खिलाया जाता है; (मुहा.)-सुन्नता-सर्वत्र आनन्द ही आनन्द दिखाई पड़ना; -तीज-(स्त्री.) सावन वदी तीज।
 हरिश्चन्द्र-(सं. पुं.) त्रेता-युग के सूर्य-वंश के अट्ठाईसवें राजा जो त्रिशंकु के पुत्र थे, (ये बड़े सत्यव्रत और दानी थे।)
 हरिस-(हिं. स्त्री.) हल की वह लंबी लकड़ी जिसके एक सिरे पर फालवाली लकड़ी जड़ी होती है तथा दूसरे सिरे पर जुआ लगाया जाता है।
 हरिहाई-(हिं. स्त्री.) देखें 'हरहाई'।
 हरिहित-(सं. पुं.) इन्द्रगोप, वीरबहूटी।
 हरी-(सं. स्त्री.) चौदह वर्णों का एक वृत्त।
 हरीचाह-(हिं. पुं.) एक प्रकार की घास जिसकी जड़ में नीबू के समान सुगंध होती है, गंवतृण।
 हरीतकी-(सं. स्त्री.) हड़, हरे।
 हरीरा-(सं. पुं.) दूध में सूजी, चीनी, इलायची आदि डालकर पकाया हुआ एक पेय पदार्थ जो विशेषतः प्रसूता को पिलाया जाता है।
 हरीवा-(सं. पुं.) बंदरों के राजा सुग्रीव।
 हरीस-(हिं. स्त्री.) देखें 'हरिस'।
 हरुअ, हरुआ (वा)-(हिं. वि.) देखें 'हलका'।
 हरुआ (वा)ई-(हिं. स्त्री.) हलकापन।
 हरुआना-(हिं. क्रि. अ.) हलका होना, शीघ्रता करना।
 हरुए-(हिं. अव्य.) धीरे-धीरे, चुपचाप।
 हरे-(सं. पुं.) 'हरि' शब्द का संवोधन का रूप।
 हरेणु-(सं. स्त्री.) रेणुका नामक गन्धद्रव्य।
 हरेवा-(हिं. पुं.) हरे रंग की एक चिड़िया।
 हरेना-(हिं. पुं.) हल में लगी हुई वह छोटी गावदुम लकड़ी जिसमें फाल लगाया जाता है।
 हरैया-(हिं. वि.) हरनेवाला।
 हरो (रौ)ल-(हिं. पुं.) देखें 'हरावल'।
 हतव्य-(सं. वि.) हरण करने योग्य।
 हर्ता-(सं. पुं.) हरण करनेवाला, संहारक।
 हर्ष-(अ. पुं.) अक्षर।
 हर्षा-(हिं. पुं.) अस्त्र-शस्त्र।
 हर्षुट-(सं. पुं.) सूर्य, कछुआ।
 हर्म्य-(सं. पुं.) राजभवन, हवेली।
 हर्म्यपृष्ठ-(सं. पुं.) हर्म्य की छत या पाटन।
 हर्षव्व-(सं. पुं.) वृतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम, इंद्र।
 हर्षव्वचाप-(सं. पुं.) इन्द्रवनुप।
 हर्ष-(हिं. स्त्री.) हड़, हरे।
 हर्षा-(हिं. पुं.) बढ़ी जाति की हड़।

हरं—(हि. स्त्री.) देखें 'हड़'।
 हरैया—(हि. स्त्री.) हाथ में पहनने का एक प्रकार का गहना।
 हर्ष—(सं. पुं.) आनन्द, प्रफुल्लता, कृष्ण के एक पुत्र का नाम; -क—(वि.) आनन्द देनेवाला; -कर—(वि.) प्रसन्न करनेवाला; -धारिका—(स्त्री.) चौदह प्रकार के तालों में से एक; -नाद—(पुं.) आनन्द-ध्वनि, आनन्दसूचक शब्द; -वधन—(पुं.) भारत के प्रसिद्ध और अंतिम हिंदू सम्राट् का नाम।
 हर्षण—(सं. पुं.) आनन्द से रोंगटे खड़े होना, प्रफुल्लित करना, कामदेव के पाँच वाणों में से एक, सत्ताईस योगों में से चौदहवाँ योग, अस्त्र का संहार।
 हर्षाना—(हि. क्रि. अ., स.) प्रसन्न होना, आनन्दित करना, प्रफुल्ल होना।
 हर्षित—(सं. वि.) आनन्दित, प्रसन्न।
 हर्षुल—(सं. पुं.) एक बुद्ध का नाम; (वि.) हर्षित करनेवाला।
 हल्—(सं. पुं.) शुद्ध व्यंजन जिसमें स्वर न मिला हो।
 हलंत—(सं. वि., पुं.) (वह शुद्ध व्यंजन) जिसके उच्चारण में स्वर न लगा हो।
 हल—(सं. पुं.) भूमि जोतने का यन्त्र, लांगल, एक अस्त्र का नाम, पैर का चिह्न; (अ. पुं.) समाधान, सुलझाव; (क्रि. प्र.)—जोतना—खेत में हल चलाना, खेती करना।
 हलकंप—(हि. पुं.) बहुत बड़ा हल्ला या उथल-पुथल, चारों ओर फैली हुई घव-झाहट।
 हलकई—(हि. स्त्री.) हलकापन, ओछापन, तुच्छता।
 हलककुद—(सं. पुं.) देखें 'हरना'।
 हलकना—(हि. क्रि. अ.) हिलना-डोलना, लहराना।
 हलका—(हि. वि.) जो तौल में भारी न हो, जो गाढ़ा न हो, पतला, (प्रहार) जो गहरा न हो, सहज, जो कठिन न हो, ओछा, थोड़ा, जो चटकीला न हो, मामूली, जो बहुत उपजाऊ न हो, महीन, छँछा, घटिया, मन्द, जिसमें गम्भीरता न हो; (पुं.) तरंग, लहर; (अ. पुं.) प्रांत, प्रदेश, मंडल, किसी अविकारी का कार्यक्षेत्र; (मुहा.)—करना—ओछा सिद्ध करना, अपमानित करना।
 हलकाई—(हि. स्त्री.) हलकापन, ओछापन।
 हलकान—(हि. वि.) देखें 'हरान'।

हलकाना—(हि. क्रि. अ., स.) हिलोरा देना, हिलाना, बौझ कम करना, हलका होना।
 हलकापन—(हि. पुं.) हलका होने का भाव, तुच्छ बुद्धि, ओछापन, अप्रतिष्ठा, नीचता।
 हलकारा—(हि. पुं.) देखें 'हरकार'।
 हलकारी—(हि. स्त्री.) कपड़े पर रंग पक्का करने के लिये पहिले उसमें फिट-किरी आदि का पुट देना।
 हलकोरा—(हि. पुं.) तरंग, पानी की लहर।
 हलप्राही—(सं. पुं.) हल चलानेवाला, खेत जोतनेवाला।
 हलचल—(हि. स्त्री.) अवीरता, व्यग्रता, घवड़ाहट, उपद्रव, खलवली, हिलना-डोलना, कंप।
 हलजीवी—(सं. वि.) हल चलाकर खेती करनेवाला (किसान)।
 हलजुता—(हि. स्त्री.) सामान्य किसान, गँवार।
 हलड़ा—(हि. पुं.) देखें 'हररा'।
 हलदंड—(सं. पुं.) हल का लंबा डंडा, हरिस।
 हलदहात—(हि. स्त्री.) विवाह के तीन या पाँच दिन पहले वर और कन्या के शरीर में तेल और हल्दी लगाने की रीति।
 हलदी—(हि. स्त्री.) एक छोटा पौधा जिसकी ग्रन्थिल जड़ मसालों में व्यवहार की जाती है, हरिद्रा, हल्दी; (मुहा.)—उठना या चढ़ाना—विवाह के कुछ दिन पहले वर और कन्या के शरीर में हल्दी और तेल पोतना;—लगना—विवाह होना;—लगे न फिटकिरी रंग आवे चौखा—विना परिश्रम के कार्य की सिद्धि होना।
 हलदू—(हि. पुं.) एक बहुत ऊँचा वृक्ष जिसकी पीली लकड़ी बहुत पुष्ट होती है।
 हलधर—(सं. पुं.) हल धारण करनेवाले बलरामजी।
 हलना—(हि. क्रि. स.) हिलना, डोलना, घुसना।
 हलपाणि—(सं. पुं.) बलरामजी
 हलफ—(अ. पुं.) शपथ, कसम;—नामा—(पुं.) शपथ-पत्र।
 हलफा—(हि. पुं.) हिलोरा, तरंग, लहर, तेज साँस चलने का रोग।
 हलफी—(अ. वि.) शपथपूर्वक कंहा हुआ।
 हलब—(हि. पुं.) शाम के पास का एक देश जहाँ का काँच प्रसिद्ध था।
 हलदल—(हि. पुं.) हलचल।
 हलबी, हलबी—(हि. वि., पुं.) हलब देश का (काँच), बढ़िया (काँच)।

हलभली, हलबली—(हि. स्त्री.) देखें 'हड़वड़ी'
 हलभूत्—(सं. पुं.) बलदेवजी।
 हलभूति—(सं. स्त्री.) कृपिकर्म, किसानी।
 हलमुख—(सं. पुं.) हल का फाल।
 हलमुखी—(सं. स्त्री.) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में नौ अक्षर होते हैं।
 हलराना—(हि. क्रि. अ.) छोटे वच्चे को हाथ पर लेकर इधर-उधर हिलाना-डुलाना, प्यार से हाथ पर झुलाना।
 हलवत—(हि. स्त्री.) वर्ष में पहले-पहल खेत में हल ले जाने की रीति।
 हलवा—(अ. पुं.) एक प्रकार का मिष्ठान्न, मोहनभोग।
 हलवाइन—(हि. स्त्री.) हलवाई की स्त्री।
 हलवाई—(हि. पुं.) मिठाई बनाने और बेचनेवाला।
 हलवाह, हलवाहा—(हि. पुं.) हल जोतने का काम करनेवाला मजदूर या नौकर।
 हलहलाना—(हि. क्रि. स.) कँपाना, हिलाना, डुलाना।
 हला—(सं. स्त्री.) सखी, पृथ्वी, जल।
 हलाक—(अ. पुं.) मौत, काल, विनाश।
 हलाकू—(अ. वि.) वध करनेवाला।
 हलाभियोग—(सं. पुं.) हलवत।
 हलायुध—(सं. पुं.) बलदेव, बलराम।
 हलाल—(अ. वि.) विहित, धर्म-निर्दिष्ट; (मुहा.)—करना—पशु को धीरे-धीरे गला रेतकर मारना।
 हलाहल—(सं. पुं.) वह प्रचण्ड विष जो समुद्र-मन्थन के समय निकला था, जिसे शिवजी ने पान किया था, बहुत तीव्र विष।
 हली—(सं. पुं.) बलदेव, कृपक, किसान।
 हलीशा—(सं. स्त्री.) हरीस, हल-दंड।
 हलुक (का)—(हि. वि.) देखें 'हलका'।
 हलुवा—(सं. पुं.) देखें 'हलवा'।
 हलोर—(हि. पुं.) देखें 'हिलोरा'।
 हलोरना—(हि. क्रि. स.) जल में हाथ डालकर हिलाना-डुलाना, मथना, अन्न को सूप से पछोड़ना, अधिक मात्रा में द्रव्य प्राप्त करना।
 हलोरा—(हि. पुं.) देखें 'हिलोरा'।
 हलका—(हि. वि.) देखें 'हलका'।
 हलदी—(हि. स्त्री.) देखें 'हलदी'।
 हल्य—(सं. वि.) हल-सम्बन्धी, हल से जोता हुआ।
 हल्या—(सं. स्त्री.) हलों का समुदाय।
 हल्लफ—(सं. पुं.) लाल कमल।
 हल्लन—(सं. पुं.) करवट बदलना, इधर-उधर डोलना।

हल्ला—(हि. पुं.) कोलाहल, चिल्लाहट, हाँक, लड़ाई के समय की ललकार, धावा। हल्लीश(ष)—(सं. पुं.) मंडलाकार स्थिति में नाचने की एक विधि, नाट्य शास्त्र में अठारह उपरूपकों में से एक जिसमें एक ही अंक होता और नृत्य की प्रधानता होती है।

हवन—(सं. पुं.) होम, किसी देवता के निमित्त अग्नि में घृत, तिल, जौ आदि डालने की क्रिया, अग्नि, अग्निकुण्ड।

हवनी—(सं. स्त्री.) होमकुण्ड।

हवनीय—(सं. वि.) हवन के योग्य; (पुं.) वह पदार्थ जो हवन करने में अग्नि में डाला जाता है।

हवा—(अ. स्त्री.) वायु, समीर, साँस, प्राण, किंवदंती, झूठी खबर, पाद, भूत-प्रेतादि।

हवाई—(हि. वि.) हवा से संबद्ध।

हवाचक्की—(हि. स्त्री.) आटा पीसने की हवा की शक्ति से चलनेवाली चक्की।

हवादार—(फा. वि.) वायु से पूर्ण, जहाँ खूब हवा लगती हो।

हवापानी—(अ. स्त्री.) जलवायु।

हवाला—(अ. पुं.) उल्लेख, संकेत, सौंपने की क्रिया।

हवास—(अ. पुं.) होश, मानसिक शक्तियाँ। हवि—(सं. स्त्री.) वह द्रव्य जिसकी आहुति अग्नि में दी जाय।

हवित्री—(सं. स्त्री.) अग्निकुण्ड।

हविगृह—(सं. पुं.) हवन करने का घर।

हविर्दान—(सं. पुं.) यज्ञ में घृत आदि की आहुति।

हविभुज्—(सं. पुं.) अग्नि, देवता।

हविभू—(सं. स्त्री.) हवन का स्थान।

हविधेज्—(सं. पुं.) हवि द्वारा किया हुआ यज्ञ।

हविर्हति—(सं. स्त्री.) हवि की आहुति।

हविष्पति—(सं. पुं.) यजमान।

हविष्य—(सं. वि.) हवन करने योग्य, जिसकी आहुति दी जानेवाली हो।

हविष्यान्न—(सं. पुं.) वह अन्न या आहार जो यज्ञ के समय खाया जाय, खाने की पवित्र वस्तु।

हवेली—(अ. स्त्री.) पक्का मकान, महल।

हव्य—(सं. पुं.) वह वस्तु जिसकी आहुति किसी देवता के निमित्त अग्नि में दी जाय; (वि.) हवि के योग; -पाक—(पुं.) चरु; -भुज्—(पुं.) अग्नि; -धोनि—(पुं.) देवता; -वाह—(पुं.) अग्नि, पीपल का वृक्ष।

हव्याश, हव्याशन—(सं. पुं.) अग्नि।

हसंतिका—(सं. स्त्री.) अंगीठी।

हसंती—(सं. स्त्री.) अग्नि रखने का पात्र।

हसन—(सं. पुं.) परिहास, विनोद।

हसिका—(सं. स्त्री.) हँसी, ठट्ठा।

हसित—(सं. पुं.) उपहास, हँसी, ठट्ठा, कामदेव का घनूप; (वि.) विकसित, खिला हुआ, जो हँसा गया हो।

हसीन—(अ. वि.) सुंदर।

हस्त—(सं. पुं.) हाथ, हाथी की सूँड़, चौबीस अँगुल की नाप, संगीत या नृत्य में हाथ की मुद्राओं से भाव व्यक्त करना, लिखावट, वासुदेव के एक पुत्र का नाम, गुच्छा, समूह, एक नक्षत्र जिसमें पाँच तारे होते हैं; -क—(पुं.) संगीत का एक ताल, ताली बजाना;

-कार्य—(पुं.) हाथ का काम या शिल्प;

-कोहलि—(स्त्री.) वर और कन्या की कलाई में मंगल-सूत्र बाँधने की क्रिया;

-कौशल—(पुं.) काम करने में हाथ की कुशलता; -क्रिया—(स्त्री.) हस्तकौशल, हाथ से लिंगेन्द्रिय का संचालन करके कृतिम

वीर्य-पात करना, -क्षेप—(पुं.) दूसरे के काम में हाथ डालना; -गत—(वि.) हाथ में आया हुआ, प्राप्त; -ग्रह—(पुं.) हाथ पकड़ना, विवाह; -ग्राह—(वि.) हाथ पकड़नेवाला; (पुं.) विवाह;

-चापत्य—(पुं.) हाथ की चतुराई; -तल—(पुं.) हथेली; -ताल—(पुं.) हाथ से ताल देना; -त्राण—(पुं.) अस्त्रों के आघात से रक्षा के लिये हाथ में पहनने का कवच; -धारण—(पुं.) हाथ पकड़ना, हाथ का सहारा देना; -पूठ—(पुं.) हथेली के पीछे का भाग; -मैथुन—(पुं.) कृत्रिम वीर्यपात के लिए हाथ से लिंगेन्द्रिय का संचालन; -योग—(पुं.) हाथ जोड़ना;

-रेखा—(स्त्री.) हथेली पर पड़ी हुई लकीर; -लाघव—(पुं.) हाथ की चतुराई;

-लिखित—(वि.) हाथ का लिखा हुआ; -लिपि—(स्त्री.) हाथ की लिखावट;

-वारण—(पुं.) आघात को हाथ पर रोकना; -विन्यास—(पुं.) हाथों की स्थिति; -सिद्धि—(स्त्री.) वेतन;

-सूत्र—(पुं.) हाथ में बाँधने का मंगल-सूत्र।

हस्तांतरण—(सं. पुं.) संपत्ति आदि का स्वत्व या स्वामित्व विधितः दूसरे को देना।

हस्तांतरित—(सं. वि.) जिसका हस्तांतरण हुआ हो।

हस्ता—(सं. स्त्री.) हस्त नक्षत्र।

हस्तामलक—(सं. पुं.) हाथ में लिये हुए

आँवले की तरह वह वस्तु या विषय जो अच्छी तरह समझ में आ जाय।

हस्तालिंगन—(सं. पुं.) हाथ मिलाना।

हस्ति, हस्ती—(सं. पुं.) गज, हाथी; -कंद—(पुं.) एक पौधा जिसका कंद खाया जाता है, हाथीकंद; -क—(पुं.) हाथियों का समूह; -कथ्य—(पुं.) व्याघ्र, सिंह;

-कर्ण—(पुं.) पलाश का वृक्ष; -कणिक—(पुं.) हठयोग का एक आसन; -कोलि—(स्त्री.) वड़ा बेर; -घ्न—(वि.) हाथी को मारनेवाला; -दंत—(पुं.) हाथी-दाँत, मूली; -नासा—(स्त्री.) हाथी की सूँड़;

-प—(पुं.) महावत; -पद—(पुं.) हाथी के पाँव का चिह्न; -पर्णो—(स्त्री.) ककड़ी; -पिप्पली—(स्त्री.) गजपीपल;

-मद—(पुं.) वह जल जो हाथी के गण्डस्थल से निकलता है; -मल्ल—(पुं.) गणेशी, ऐरावत; -वाह—(पुं.) महावत; -विषाण—(पुं.) केले का वृक्ष;

-शाला—(स्त्री.) फालखाना; -सूत्र—(पुं.) हाथी चलाने की विद्या।

हस्तिनापुर—(सं. पुं.) कौरवों की राजधानी का नाम।

हस्तिनी—(सं. स्त्री.) मादा हाथी, हथिनी, कामशास्त्र के अनुसार स्त्रियों के चार भेदों में से एक, एक प्रकार का सुरान्वित द्रव्य।

हस्ते—(हि. अव्य.) हाथ से, हथ्ये।

हहर—(हि. स्त्री.) कौकपी, थराहट, डर।

हहरना—(हि. क्रि. अ.) कांपना, थरथराना, थरना, ठक रह जाना, दहलना, ईर्ष्या करना, सिहाना।

हहराना—(हि. क्रि. स.) कांपाना, थरथराना, डराना, भयभीत करना।

हहलना, हहलाना—(हि. क्रि. अ., स.) देखें 'हहरना', 'हहराना'।

हहा—(हि. स्त्री.) हँसने का शब्द, ठट्ठा, गिड़गिड़ाने का शब्द, बिनती।

हाँ—(हि. अव्य.) स्वीकृति अथवा सम्मति-सूचक शब्द; (मुहा.) -करना-स्वीकार कर लेना; -हाँजी-हाँजी करना-चापलूसी करना।

हाँक—(हि. स्त्री.) चिल्लाकर पुकारने का शब्द, लड़ाई में धावा करने के समय की चिल्लाहट, ललकार, दुहाई, गढ़ावा।

हाँकना—(हि. क्रि. स.) चिल्लाकर पुकारना, ललकारना, (घोड़े, बैल, ऊँट आदि से) गाड़ी चलवाना, गाड़ी में जूते हुए जानवरों को आगे बढ़ाना, चौपायों को किसी स्थान से हटाना, पंखे से हवा करना, पंखा झलना,

वढ़-वढ़कर बातें करना, हाँक लगाना ।
 हांगर—(हि.पुं.) एक प्रकार की बड़ी मछली ।
 हांगा—(हि.पुं.) शरीर का बल ।
 हांगी—(हि.स्त्री.) स्वीकृति, हामी ।
 हाँड़ना—(हि.वि.) व्यर्थ इधर-उधर घूमने-
 वाला, आवारा ।
 हाँड़ी—(हि.स्त्री.) बटलोई के आकार का
 मट्टी का पात्र, इस आकार का मोमबती
 जलाकर रखने का काँच का पात्र; (मुहा.)
 -पकना—कोई पड़्यन्त्र रचा जाना ।
 हाँता—(हि.वि.) हटाया हुआ, छोड़ा हुआ ।
 हाँपना, हाँफना—(हि.क्रि.अ.) (बौड़ने,
 कठिन परिश्रम करने या रोग के कारण)
 साँस का वेग से चलना ।
 हाँफा—(हि.पुं.) हाँफने की क्रिया या भाव ।
 हाँसना—(हि.क्रि.अ.) हँसना ।
 हाँसल—(हि.पुं.) एक प्रकार का घोड़ा ।
 हाँसी—(हि.स्त्री.) हँसने की क्रिया या
 भाव, उपहास, निन्दा ।
 हाँहा—(हि.अव्य.) कोई काम करनेवाले
 को रोकने के लिए कहा जानेवाला शब्द ।
 हा—(सं.अव्य.) शोक या दुःखसूचक
 शब्द; (वि.) वध करनेवाला, मारनेवाला ।
 हाई—(हि.स्त्री.) अवस्था, दशा, ढंग,
 तरीका ।
 हाऊ—(हि.पुं.) वच्चों को डराने का शब्द,
 हीवा, भकाऊँ ।
 हाकल—(सं.पुं.) एक प्रकार का छन्द
 जिसके प्रत्येक चरण में पन्द्रह
 मात्राएँ होती हैं तथा अन्त में एक गुरु
 वर्ण होता है ।
 हाकलिका—(सं.स्त्री.) एक वर्णवृत्त जिसके
 प्रत्येक चरण में पंद्रह अक्षर होते हैं ।
 हाकली—(सं.स्त्री.) दस अक्षरों का एक
 वर्णवृत्त ।
 हाकिम—(अ.पुं.) सरकारी उच्च अधि-
 कारी, मालिक ।
 हाकिमाना—(अ.वि.) हाकिम के जैसा ।
 हाजना—(अ.पुं.) पाचन-शक्ति ।
 हाजिर—(अ.वि.) उपस्थित, मौजूद ।
 हाजिरी—(अ.स्त्री.) उपस्थिति, मौजूदगी ।
 हाजी—(अ.पुं.) हज करनेवाला, वह जो
 हज कर चुका हो ।
 हाट—(हि.स्त्री.) दुकान, बाजार, बाजार
 लगने का दिन; (क्रि.प्र.)—करना—दुकान
 लगाना;—क—(पुं.) सुवर्ण, सोना, धतूरा;
 -०पुर—(पुं.) लका;—लोचन—(पुं.)
 हिरण्याक्ष ।
 हाटकीय—(सं.वि.) सोने का बना हुआ ।
 हाड़—(हि.पुं.) अस्थि, हड्डी, कुलीनता ।

हाड़ा—(हि.पुं.) लाल रंग का बड़ा
 हड्डा ।
 हाड़ी—(हि.पुं.) एक प्रकार का बगला,
 कौआ ।
 हाथ—(हि.पुं.) (मनुष्य, बंदर आदि
 प्राणियों का) किसी पदार्थ को पकड़ने
 या छूने का अवयव, हस्त, बाहु से लेकर
 पंजे तक का अंग, चौबीस अँगुली की नाप,
 (ताश, जुए आदि के खेल में) एक आदमी
 के खेलने की वारी, किसी हथियार की
 मुठिया, किसी कार्यालय में काम करनेवाले
 मनुष्य, तलवार आदि चलाने का ढंग;
 (मुहा.)—आना—प्राप्त होना;—उठाना—
 किसी को मारने के लिये हाथ तानना;
 -ऊँचा होना—दान देने में उद्यत होना;
 -कट जाना—किसी योग्य सहायक का न
 रह जाना;—की मेल—कोई तुच्छ वस्तु;
 -खाली होना—पास में धन न रह जाना;
 -खुजलाना—मारने-पीटने की इच्छा
 होना, धन आदि मिलने के लक्षण सूचित
 होना;—खींच लेना—किसी कार्य से अलग
 हो जाना;—चलाना—मारना, पीटना;
 -चूमना—किसी के हस्तकौशल पर
 प्रसन्नता दिखलाना;—छोड़ना—प्रहार
 करना;—जोड़ना—प्रणाम करना, विनती
 करना; (दूर से)—जोड़ना—संसर्ग से
 दूर रहना;—डालना—कोई काम आरंभ
 करना;—तंग होना—पास में धन की कमी
 होना;—धोकर पीछे पड़ना—जी-जान
 से संलग्न हो जाना;—धोना—खो देना;
 -पकड़ना—सहारा देना, मदद करना;
 -पत्थर तले दबना—आपत्ति में पड़ना,
 विवश होना;—पर हाथ धरे बैठे रहना—
 कोई उद्यम न करना;—पसारना—हाथ
 फैलाकर कुछ माँगना;—पाँव ठंडे होना—
 मरणासन्न होना;—पाँव पटकना—छट-
 पटाना;—पाँव फूलना—व्यग्र होना, धवड़ा
 जाना;—पाँव हिलाना—प्रयत्न या उद्योग
 करना;—पैर जोड़ना—बड़ी विनती
 करना; (किसी वस्तु पर)—फेरना—
 चुरा लेना;—मलना—पछताना;
 -मारना—किसी वस्तु को चुरा लेना;
 -में आना—अधीन होना;—में करना—
 अपने वश में करना;—रंगना—उत्कीच
 लेना, घूस लेना;—रोपना—हाथ
 फैलाना;—लगना—प्राप्त होना, पाना;
 (किसी काम में)—लगाना—कोई कार्य
 आरंभ करना; हाथोहाथ—(अव्य.)
 तुरत, शीघ्र;—०लेना—आदर किया
 जाना;—कंडा—(पुं.) देखें 'हथकंडा';

-तोड़ (पुं.) मल्लयुद्ध की एक युक्ति;
 -पान, -फल—(पुं.) हथेली के पीछे की
 ओर पहिने का एक आमपण;—बाँह—
 (पुं.) कसरत करने का एक ढंग ।
 हाथा—(हि.पुं.) किसी हथियार की मूठ, पंजे
 की छाप या चिह्न;—छाँही—(स्त्री.)
 व्यवहार में कपट;—जोड़ी—(स्त्री.)
 एक पीघा जो औपघों में प्रयुक्त होता
 है;—पाई, -बाँही—(स्त्री.) मुठभेड़,
 घौलघप्पड़ ।
 हाथी—(हि.पुं.) एक बड़ा (वन्य तथा पालतू)
 स्तन-पायी चौपाया, हस्ती; (मुहा.)
 -पर चढ़ना—बहुत धनी होना;—खाना—
 (पुं.) हाथी बाँधने का स्थान;
 -चक्र—(पुं.) एक प्रकार का पीघा जो
 औषधों में प्रयुक्त होता है;—दाँत—(पुं.)
 हाथी के मुँह के दोनों छोरों पर निकले
 हुए लंबे सफेद दाँत;—नाल—(स्त्री.) हाथी
 की पीठ पर लादकर ले जाने की पुराने
 चाल की तोप;—पाँव—(पुं.) फीलपाँव
 नामक रोग;—वान—(पुं.) महावत ।
 हान—(सं.पुं.) हानि, परित्याग ।
 हानि—(सं.स्त्री.) नाश, क्षय, अभाव,
 अनिष्ट, बुराई, क्षति, घाटा;—कर—
 (वि.) अनिष्ट करनेवाला, स्वास्थ्य
 बिगाड़नेवाला;—कारक, -कारी—(वि.)
 बुरा परिणाम उत्पन्न करनेवाला, हानि
 पहुँचानेवाला ।
 हामी—(हि.स्त्री.) स्वीकृति, स्वीकार;
 (मुहा.)—भरना—स्वीकार करना ।
 हाय—(हि.पुं.) पीड़ा अथवा दुःख सूचित
 करने का शब्द, आह; (स्त्री.) पीड़ा, दुःख,
 कष्ट; (मुहा.) किसी की हाय पड़ना—
 किसी को कष्ट देने पर उसका बुरा फल
 मिलना;—हाय—(अव्य.) शोक, दुःख या
 शारीरिक कष्टसूचक शब्द; (स्त्री.)
 परेशानी, झंझट ।
 हायन—(सं.पुं.) वत्सर, साल, एक
 प्रकार का लाल धान ।
 हायल—(हि.वि.) घायल, शिथिल,
 मूर्च्छित, रोकनेवाला ।
 हार—(सं.वि.) चुरानेवाला, ले जानेवाला,
 नाश करनेवाला, सुंदर, मनोहर; (पुं.)
 सोने-चाँदी या मोतियों की माला, अक-
 गणित में भाजक, छद्मशास्त्र में गुरु-
 मात्रा, युद्ध, लड़ाई; (हि.स्त्री.)
 पराजय, असफलता ।
 हारक—(सं.पुं.) घूर्त, चोर, गणित में
 भाजक, हार, माला; (वि.) हरण
 करनेवाला, ले जानेवाला ।

हारगुटिका—(सं. स्त्री.) माला का दाना ।
 हारना—(हि. क्रि. अ.) परामृत होना, शिथिल होना, थक जाना, असमर्थ होना, निराश होना, (लड़ाई, जुए आदि में) घन गँवाना, छोड़ देना; हारकर रह जाना—विवश होकर छोड़ देना ।
 हारबंध—(सं. पुं.) एक चित्रकाव्य जिसमें पद्य हार के आकार में लिखे जाते हैं ।
 हारभरा—(सं. स्त्री.) द्राक्षा, दाख ।
 हारल—(हि. पुं.) एक प्रकार की चिड़िया ।
 हारसिंगार—(हि. पुं.) हरसिंगार, पर-जाता ।
 हारहर—(सं. पुं.) मद्य ।
 हारा—(सं. स्त्री.) मद्य; (पुं.) चौहान राजपूतों की एक शाखा; (हि. पुं.) एक प्रत्यय जो 'वाला' के अर्थ में कुछ शब्दों के अंत में प्रयुक्त होता है ।
 हारावली—(सं. स्त्री.) मोतियों की माला ।
 हारि—(सं. स्त्री.) पथिकसमूह, हार, परामव; -कठ—(पुं.) कोकिल, कोयल; (वि.) जिसके गले में हार हो ।
 हारिणाडवा—(सं. स्त्री.) संगीत में एक मूच्छंला का नाम ।
 हारित—(सं. पुं.) सुग्गा, एक वणवृत्त का नाम; (वि.) हरण किया हुआ, लाया हुआ, खोया हुआ ।
 हारिद्र—(सं. वि.) हल्दी से रंगा हुआ; (पुं.) पीला रंग ।
 हारिल—(हि. पुं.) एक प्रकार की हरे रंग की चिड़िया जो प्रायः अपने पंजे में लकड़ी का टुकड़ा या तिनका लिये रहती है ।
 हारी—(सं. वि.) हरण करनेवाला, छीनने-वाला, चरानेवाला, लूटनेवाला, नाश करनेवाला, जीतनेवाला, मोहित करने-वाला, हार पहननेवाला; (पुं.) एक वर्ण-वृत्त का नाम ।
 हारीत—(सं. पुं.) एक प्रकार का कबूतर, चोर, लुटेरा, लुटेरापत्न, चोरी; -क—(पुं.) परवा पक्षी; -बंध—(पुं.) एक प्रकार का छन्द ।
 हारुक—(सं. पुं.) हरण करनेवाला, छीनने-वाला ।
 हार्द—(सं. पुं.) अभिप्राय, स्नेह; (वि.) हृदय का ।
 हार्दिक—(सं. वि.) हृदय-संबंधी, हृदय का, हृदय से निकला हुआ, आंतरिक, सच्चा ।
 हार्दिक्य—(सं. पुं.) मित्रभाव, मित्रता ।
 हार्थ—(सं. वि.) छीनने योग्य, स्वीकार करने योग्य, छोड़ने योग्य, रोकने योग्य, ले जाने योग्य ।

हाल—(सं. पुं.) बलराम, हल, लांगल; (हि. स्त्री.) लोहे का वह पट्टा जो गाड़ी के पहिये पर चढ़ाया जाता है; (अ. पुं.) दशा, वर्तमान काल, वृत्तान्त; (हि. अव्य.) अभी, तुरत ।
 हालगोला—(हि. पुं.) गंद ।
 हालडोल—(हि. पुं.) कप, हलचल ।
 हालना—(हि. क्रि. अ.) हिलना, डोलना, झूमना ।
 हालरा—(हि. पुं.) बच्चे को हाथों में लेकर हिलाने-डोलाने का कार्य, लहर, हिलोरा, झोंका ।
 हालहल—(सं. पुं.) देखें 'हलाहल' ।
 हालहल—(हि. स्त्री.) हल्ला, उपद्रव, हलचल ।
 हाला—(सं. स्त्री.) मद्य, मदिरा ।
 हालाहल—(सं. पुं.) देखें 'हलाहल' ।
 हालाहली—(सं. स्त्री.) मदिरा ।
 हालिनी—(सं. स्त्री.) एक प्रकार की छिप-कली ।
 हाली—(हि. वि., अव्य.) अभी (का), तत्काल ।
 हाव—(सं. पुं.) पास बुलाने की क्रिया या भाव, प्रेमातुर अवस्था में नायिका की पुरुष को आकर्षण करनेवाली चेष्टाएँ ।
 हावनीय—(सं. वि.) हवन करने योग्य ।
 हाव-भाव—(सं. पुं.) पुरुषों का चित्त आकर्षण करनेवाली स्त्रियों की चेष्टा ।
 हावर—(हि. पुं.) एक प्रकार का छोटा वृक्ष जिसकी लकड़ी पुष्ट होती है ।
 हावला-बावला—(हि. वि.) सनकी, झक्की ।
 हास—(सं. पुं.) हँसने की क्रिया या भाव, हँसी, उपहास, निन्दा; -क—(पुं.) हँसानेवाला; -कर—(वि.) हँसानेवाला ।
 हासन—(सं. पुं.) हँसानेवाला व्यक्ति ।
 हासनिक—(सं. पु.) क्रीड़ा या खेल का साथी ।
 हासशील—(सं. वि.) हँसनेवाला ।
 हासिल—(अ. वि.) जो कुछ हाथ लगे, लब्ध ।
 हासी—(सं. वि.) हँसनेवाला ।
 हास्त—(सं. वि.) हस्त संबंधी ।
 हास्तिक—(सं. पुं.) हाथियों का झुंड ।
 हास्य—(सं. पुं.) हँसने की क्रिया या भाव, हँसी, साहित्य में नी स्यायी भावों में से एक, ठट्ठा, उपहास; (वि.) उपहास के योग्य; -कर—(वि.) हँसानेवाला; -रस—(पुं.) काव्य का हास्यकर रस ।
 हास्यास्पद—(सं. पुं.) हास्य का विषय, वह जिसको देखकर लोग हँस पड़े ।
 हास्योत्पादक—(सं. वि.) उपहास के योग्य, हास्य उत्पन्न करनेवाला ।

हाहंत—(सं. अव्य.) अत्यन्त शोकसूचक शब्द ।
 हाहा—(सं. पुं.) देव-गन्धर्व विषोष; (हि. पुं.) हँसने का शब्द, गिड़गिड़ाने का शब्द; -कार—(हि. पुं.) घबड़ाहट की चित्ला-हट, युद्ध का कोलाहल; -ठीठी—(हि. स्त्री.) हँसी, ठट्ठा ।
 हाही—(हि. स्त्री.) कुछ पाने की उत्कट इच्छा; (मुहा.)-पड़ना—कोई वस्तु पाने के लिए बहुत लालायित होना ।
 हाहू—(हि. पुं.) कोलाहल, हलचल; -बर—(पुं.) जंगली बर, झरबेरी ।
 हिकरना—(हि. क्रि. अ.) घोड़ों का हिन-हिनाना ।
 हिकार—(हि. पुं.) गाय के रँभाने का शब्द ।
 हिंगनबर—(हि. पुं.) इंगुदी वृक्ष, हिंगोट ।
 हिंगु—(सं. पुं.) एक वृक्ष, हींग ।
 हिंगोट—(हि. पुं.) इंगुदी वृक्ष ।
 हिडन—(सं. पुं.) धूमना-फिरना, क्रीड़ा, खेल, रति, मैथुन ।
 हिडोरा—(हि. पुं.) देखें 'हिडोला' ।
 हिडोरी—(हि. स्त्री.) छोटा हिडोला ।
 हिडोल—(हि. पुं.) हिडोला, एक प्रकार का राग ।
 हिडोलना, हिडोला—(हि. पुं.) पालना, झूला; (क्रि. स.) घँघोलना ।
 हिडोली—(सं. स्त्री.) एक रागिनी का नाम ।
 हिदी—(फा. स्त्री.) भारतवर्ष की वोली, भारत की राष्ट्र-भाषा, नागरी ।
 हिंदुत्व—(हि. पुं.) हिंदू होने का भाव या गुण ।
 हिन्दुस्तान—(हि. पुं.) देखें 'भारतवर्ष' ।
 हिन्दुस्तानी—(फा. वि.) हिन्दुस्तान-संबंधी; (पुं.) यहाँ का निवासी; (स्त्री.) यहाँ की भाषा ।
 हिंदू—(हि. पुं.) वेद-विहित सनातन धर्म का अनुयायी; -पत—(पुं.) हिंदुत्व ।
 हिंदोरना—(हि. क्रि. स.) तरल वस्तु में हाथ डालकर इधर-उधर घुमाना ।
 हिंदोल—(सं. पुं.) एक उत्सव जिसमें देवताओं की मूर्ति झूले पर बैठाकर झुलाई जाती है, एक राग का नाम ।
 हिंदोस्तान—(हि. पुं.) भारतवर्ष ।
 हिर्पा—(हि. अव्य.) यहाँ ।
 हिंव, हिंवार—(हि. पुं.) हिम, पाला ।
 हिस—(हि. स्त्री.) घोड़े का हिनहिनाना ।
 हिसक—(सं. वि.) घातक, हत्यारा, हानि पहुँचानेवाला; (पुं.) हिल पशु ।
 हिसन—(सं. पुं.) जीवों का वध, जान मारना, जीवों को कष्ट देना, द्वेष करना, अनिष्ट करना ।

हिंसनीय—(सं. वि.) हिंसा करने योग्य ।
 हिंसा—(सं. स्त्री.) वध, हत्या, हानि पहुँचाना, कष्ट देना, ईर्ष्या, द्वेष; —कर्म—(पु.) किसी को मारने या कष्ट देने का काम ।
 हिंसात्मक—(सं. वि.) जिसमें हिंसा हो, हिंसा से युक्त ।
 हिंसार—(सं. पुं.) हिंसा पशु, व्याघ्र ।
 हिंसालु—(सं. वि.) हिंसापूर्ण, वधशील, मारनेवाला, घातक ।
 हिंसालुक—(सं. वि.) घातक, हिंसात्मक ।
 हिंसित—(सं. वि.) जिसके प्रति हिंसा की गई हो, मारा हुआ ।
 हिंसितव्य—(सं. वि.) हिंसा करने योग्य ।
 हिंस्य—(सं. पुं.) जिसकी हिंसा की जाने को हो, वध ।
 हिंस्र—(सं. वि.) हिंसा से पूर्ण, घातक; (पुं.) हिंसा या जीव-वध करनेवाला जन्तु ।
 हिंस्रक—(सं. पुं.) हिंसा करनेवाला पशु ।
 हिंस्रा—(सं. स्त्री.) जटामासी, भटकटैया ।
 हिं—(हि. प्रत्य.) पुरानी हिंदी की एक विभक्ति जिसका प्रयोग पहले सभी कारकों में होता था, परन्तु बाद में इसका प्रयोग ("को" के अर्थ में) कर्म और सम्प्रदानकारकों में होने लगा ।
 हिअ, हिआ—(हि. पुं.) हृदय, छाती ।
 हिआउ, हिआव—(हि. पुं.) साहस ।
 हिअमत—(अ. स्त्री.) चतुराई, बुद्धिमानी, युक्ति ।
 हिअमती—(फा. वि.) चालाक, बुद्धिमान् ।
 हिअलाना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'हकलाना' ।
 हिअकल—(हि. पुं.) बौद्ध संन्यासियों का ढण्ड ।
 हिअका—(सं. स्त्री.) हिचकी, अधिक हिचकी आने का रोग ।
 हिअक—(हि. स्त्री.) कोई काम करते समय चिन्त रुक या अटक आना, आगा-पीछा ।
 हिअकना—(हि. क्रि. अ.) कोई काम करने में आगा-पीछा करना, हिचकी आना ।
 हिअकफिअना—(हि. क्रि. अ.) देखें 'हिअकना' ।
 हिअकफिअहट—(हि. स्त्री.) देखें 'हिअक' ।
 हिअकी—(हि. स्त्री.) पेट की वायु का कण्ठ से झटका देते हुए निकलना, रह-रहकर सिसकने का शब्द ।
 हिअर-मिअर—(हि. पुं.) आगा-पीछा, टालमटोल ।
 हिअड़ा—(हि. पुं.) नपुंसक ।
 हिअरी—(अ. पुं.) मुसलमानों का संबन्ध ।

हिअजल—(सं. पुं.) एक प्रकार का वृक्ष, समुद्रफल ।
 हिअडव—(सं. पुं.) एक राक्षस जिसको वनवास के समय भीम ने मार डाला था ।
 हिअडवा—(सं. स्त्री.) हिअडव राक्षस की बहिन, घटोत्कच की माता ।
 हिअडोरा—(हि. पुं.) देखें 'हिअडोला' ।
 हिअत—(सं. वि.) उपकारी, लाभदायक, अनुकूल, प्रिय, अच्छा व्यवहार करनेवाला, पथ्य; (पु.) लाभ, कल्याण, मंगल, मित्र, संबंधी, प्रेम, स्नेह, अनुकूलता, भलाई, लाभ; (अव्य.) निमित्त, वास्ते, लिये; —क—(पुं.) शिशु, बच्चा; —कर—(वि.) लाभ पहुँचानेवाला, उपयोगी, स्वास्थ्यकर; —कर्ता—(पुं.) भलाई करनेवाला; —कर्म—(पुं.) भलाई का कार्य; —काम—(वि.) भलाई की इच्छा करनेवाला; —कारक—(वि.) लाभ पहुँचानेवाला, स्वास्थ्यकर, भलाई करनेवाला; —कारी—(वि.) उपकार या कल्याण करनेवाला; —चितक—(वि.) भला चाहनेवाला; —चितन—(पुं.) किसी का भला चाहना; —ता—(स्त्री.) भलाई; —वचन—(पुं.) कल्याण, उपदेश; —वादी—(वि.) उपकार या लाभ की बात कहनेवाला ।
 हिअतई—(हि. स्त्री.) संबंध, नाता ।
 हिअताना—(हि. क्रि. अ.) अनुकूल होना, अच्छा लगना ।
 हिअतानुबंधी—(सं. वि.) भलाई चाहनेवाला ।
 हिअतार्थी—(सं. वि.) हित या भलाई चाहनेवाला ।
 हिअतावह—(सं. वि.) हितकारी, जिसमें भलाई हो ।
 हिअताहित—(सं. पुं.) भलाई-चुराई, हानि-लाभ ।
 हिअती, हिअत—(हि. पुं.) भलाई चाहनेवाला, मित्र, सम्बन्धी, स्नेही ।
 हिअतेच्छा—(सं. स्त्री.) उपकार या हित का ध्यान ।
 हिअतेच्छु—(सं. वि.) कल्याण मनानेवाला ।
 हिअतपिता—(सं. स्त्री.) किसी का कल्याण चाहने की वृत्ति ।
 हिअतपी—(सं. वि.) भला चाहनेवाला, कल्याण मनानेवाला; (पुं.) मित्र ।
 हिअतोपित—(सं. स्त्री.) भलाई का उपदेश ।
 हिअतोपदेश—(सं. पुं.) भलाई का उपदेश ।
 हिअनती—(हि. स्त्री.) देखें 'हीनता' ।
 हिअनहिनाना—(हि. क्रि. अ.) छोड़े का बोलना ।
 हिअनहिनहट—(हि. स्त्री.) छोड़े की बोली ।

हिअफाजत—(अ. स्त्री.) रक्षा, रखवाली ।
 हिअमंचल—(हि. पुं.) देखें 'हिअमचल' ।
 हिअमंत—(हि. पुं.) देखें 'हिअमंत' ।
 हिअम—(सं. वि.) शीत, शीतल, ठंडा; (पुं.) पाला, चन्द्रमा, चन्दन, मोती, जाड़े की ऋतु, कपूर, मक्खन, कमल, खस, हिमालय पर्वत; —अपल—(पुं.) ओला, पत्थर; —ऋतु—(स्त्री.) जाड़े की ऋतु; —कण—(पुं.) पाले के महीन कण; —कर—(पुं.) कपूर, चन्द्रमा; —तनय—(पुं.) वृध; —किरण—(पुं.) चन्द्रमा; —कूट—(पुं.) शिशिर ऋतु; —खंड—(पुं.) हिमालय पर्वत, ओला; —गिरि—(पुं.) हिमालय पर्वत; —गृह—(पुं.) शीतल या ठंडी बनाई हुई कोठरी; —ज—(पुं.) हिमालय पर्वत, मैनाक; —जा—(स्त्री.) पार्वती; —ज्योति, —दीधिति—(पुं.) चन्द्रमा; —दुग्धा—(स्त्री.) खिरनी; —शुक्ति—(पुं.) चन्द्रमा; —द्रुम—(पुं.) बकायन का वृक्ष; —धर—(पुं.) हिमालय पर्वत; —पात—(पुं.) पाला पड़ना; —भानु—(पुं.) चन्द्रमा; —भूभृत्—(पुं.) हिमालय पर्वत; —मयूख—(पुं.) चन्द्रमा; —रश्मि—(पुं.) चन्द्रमा; —वत्—(पुं.) हिमालय पर्वत; —वान्—(पुं.) हिमालय पर्वत, कैलास पर्वत, चन्द्रमा; —वारि—(पुं.) ठंडा पानी; —वृष्टि—(स्त्री.) पाला गिरना; —शैल—(पुं.) हिमालय पर्वत; —जा—(स्त्री.) पार्वती; —सुत—(पुं.) चन्द्रमा ।
 हिअमंभ—(सं. पुं.) ठंडा पानी ।
 हिअमंशु—(सं. पुं.) कपूर, चाँदी, चन्द्रमा ।
 हिअमा—(सं. स्त्री.) छोटी इलायची, नागर-मोथा, रेणुका, मूली ।
 हिअमचल—(सं. पुं.) हिमालय पर्वत ।
 हिअमद्रि—(सं. पुं.) हिमालय पर्वत; —जा—(स्त्री.) पार्वती; —तनया—(स्त्री.) दुर्गा ।
 हिअमानी—(सं. स्त्री.) बर्फ का ढेर ।
 हिअमब्ज—(सं. पुं.) नील कमल ।
 हिअमभ्र—(सं. पुं.) कपूर ।
 हिअमारोति—(सं. पुं.) अग्नि, सूर्य, मदार का वृक्ष ।
 हिअमालय—(सं. पुं.) भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत जो संसार में सब से ऊँचा पर्वत है; —सुता—(स्त्री.) पार्वती ।
 हिअमावती—(सं. स्त्री.) स्वर्णक्षीरी नामक औषधि ।
 हिअमि—(हि. पुं.) हिम, पाला ।
 हिअमिका—(सं. स्त्री.) घास आदि पर जमा हुआ पाला, शिशिर-बिन्दु ।

हिमोदक-(सं. पुं.) ठंडा पानी ।
 हिमोपम-(सं. पुं.) प्रवाल, मूंगा ।
 हिम्मत-(अ. स्त्री.) साहस, वीरता ।
 हिम्मती-(अ. वि.) हिम्मतवाला, साहसी ।
 हिय, हियरा-(हिं. पुं.) हृदय, मन, छाती ।
 हियाँ-(हिं. अव्य.) यहाँ, इस जगह ।
 हिया-(हिं. पुं.) हृदय, मन, वक्षःस्थल, छाती; (मुहा.)-जलना-बहुत क्रोध होना; -लगाना-गले लगाना; हिये का अंधा-ज्ञानशून्य ।
 हियाव-(हिं. पुं.) साहस, दृढ़ता; (मुहा.)-खुलना-साहस होना, संकोच हटना; -पड़ना-साहस होना ।
 हिर-(सं. पुं.) कपड़े आदि की पट्टी ।
 हिरकना-(हिं. क्रि. अ.) पास जाना, सटना ।
 हिरकाना-(हिं. क्रि. स.) पास ले जाना, सटाना ।
 हिरगिनी-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की बढ़िया कपास ।
 हिरण-(सं. पुं.) रेत, वीर्य, सोना, कौड़ी; (हिं. पुं.) हरिन, मृग ।
 हिरण्मय-(सं. पुं.) जम्बू द्वीप के नौ खंडों में से एक; (वि.) सोने का बना हुआ ।
 हिरण्य-(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना, घतूरा, वीर्य, कौड़ी, धन, चाँदी, अमृत, ज्योति, ज्ञान, तत्व, एक मान या तौल; -कण-(वि.) जो कान में सोने का कुण्डल पहिने हुए हो; -कर्त्ता-(पुं.) सुनार; -कशिपु-(पुं.) एक दैत्य जिसको नृसिंहावतार में विष्णु ने मारा था; -कार-(पुं.) सुनार; -केश-(पुं.) विष्णु; -गर्भ-(पुं.) ब्रह्मा, वह ज्योतिर्मय अण्ड जिससे ब्रह्मा तथा सम्पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, सूक्ष्म शरीर से युक्त आत्मा; -चक्र-(पुं.) वह रथ जिसका पहिया सोने का बना हो; -ज-(वि.) सोने का बना हुआ; -दा-(वि.) पृथ्वी; -नाभ-(पुं.) मैनाक पर्वत; -पति-(पुं.) शिव, महादेव; -पुर-(पुं.) असुरों के एक नगर का नाम; -पुष्पी-(स्त्री.) करियारी नामक विषैला पौधा; -वाहु-(पुं.) शिव, महादेव, एक नाग का नाम; -बिंदु-(पुं.) अग्नि, आग; -रूप-(वि.) सुवर्ण के समान रूपवाला; -रेता-(पुं.) अग्नि, आग, सूर्य, शिव; -लोभा-(पुं.) भीष्म का एक नाम; -वर्म-(पुं.) सोने का कवच; -वान्-(वि.) जिसके पास सोना हो; -वाह-(पुं.)

शिव, महादेव; -शृंग-(पुं.) सोने के शिखरवाला एक कल्पित पर्वत ।
 हिरण्याक्ष-(सं. पुं.) एक प्रसिद्ध दैत्य जो हिरण्यकशिपु का भाई था, (विष्णु ने बराह अवतार लेकर इसको मारा था ।)
 हिरण्याश्व-(सं. पुं.) सोलह महादानों में से एक ।
 हिरदय-(हिं. पुं.) देखें 'हृदय' ।
 हिरदावल-(हिं. पुं.) घोड़े की छाती पर की एक भौरी जो अशुभ मानी जाती है ।
 हिरन-(हिं. पुं.) हरिण, मृग; (मुहा.)-हो जाना-वेग से भाग जाना; -खुरी-(स्त्री.) एक प्रकार का बरसाती पौधा ।
 हिरनाकुश-(हिं. पुं.) देखें 'हिरण्यकशिपु' ।
 हिरनौटा-(हिं. पुं.) हरिन का बच्चा ।
 हिरस-(हिं. स्त्री.) ईर्ष्या ।
 हिराना-(हिं. क्रि. अ.) खो जाना, मिटना, दूर होना, हक्काबक्का होना, ध्यान में न रहना, भूल जाना, मवेशियों को खाद के लिये खेतों में बाँधना ।
 हिरावल-(हिं. पुं.) देखें 'हरावल' ।
 हिरासत-(अ. स्त्री.) हवालात, नजर-बंदी ।
 हिरौल-(हिं. पुं.) देखें 'हरावल' ।
 हिलकी-(हिं. स्त्री.) हिचकी, सिसकी ।
 हिलकोर, हिलकोरा-(हिं. पुं.) तरंग, लहर ।
 हिलकोरना-(हिं. क्रि. अं.) पानी को हिलाकर लहरें उठाना ।
 हिलग-(हिं. स्त्री.) संबंध, लगाव, प्रेम, हेलमेल ।
 हिलगना-(हिं. क्रि. अ.) अटकना, फँसना, हिल-मिल जाना, परचना, पास आना, सटना ।
 हिलगाना-(हिं. क्रि. स.) अटकाना, फँसाना, परचाना ।
 हिलना-(हिं. क्रि. अं.) अपने स्थान से टलना, चलायमान होना, डोलना, रोकना, ढीला होना, काँपना, थरथराना, जल में प्रवेश करना, झूमना, लहराना, स्थिर न रहना; -मिलना-(क्रि. स.) परचना ।
 हिलमोची-(सं. स्त्री.) एक प्रकार का साग ।
 हिलसा-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार की चिपटी और बड़ी मछली ।
 हिलाना-(हिं. क्रि. स.) स्थान से उठाना, टालना, चलायमान करना, डुलाना, झुलाना, काँपना, अनुरक्त करना, पर-चाना, जल में प्रवेश कराना ।
 हिलाल-(अ. पुं.) दूज का चन्द्रमा ।

हिलोर, हिलोरा-(हिं. पुं.) हवा के वेग से जल का उठना और गिरना, तरंग, लहर ।
 हिलोरना-(हिं. क्रि. स.) जल को इधर-उधर हिलाना, डुलाना, लहराना ।
 हिलोल-(हिं. पुं.) देखें 'हिलोर' ।
 हिल्लोल-(सं. पुं.) हिलोरा, लहर, आनन्द की तरंग, एक राग का नाम ।
 हिल्लोलन-(सं. पुं.) लहराना, झूलना ।
 हिवं-(हिं. पुं.) हिम, पाला ।
 हिवार-(हिं. पुं.) पाला ।
 हिसाव-(अ. पुं.) गिनती गणना, जोड़, सवाल का प्रश्न, गणित-विद्या, लेन-देन का ब्योरा; -किताब-(पुं.) आर्थिक लेन-देन का ब्योरा; -चोर-(पुं.) वह जो हिसाव-किताब लिखने में चोरी करता हो; -बही-(स्त्री.) वह पुस्तक जिसमें लेन-देन का ब्योरा लिखा जाता हो ।
 हिसिषा-(हिं. स्त्री.) ईर्ष्या, स्वर्धा, बराबरी करने का भाव ।
 हिस्सा-(अ. पुं.) भाग, अंश, खंड; -बखरा-(पुं.) भाग, अंश ।
 हिस्सेदार-(अ. पुं.) अंश का अधिकारी, साझी ।
 हिस्सेदारी-(अ. स्त्री.) साझा ।
 हिहि-(सं. अव्य.) हँसने का शब्द ।
 हिहिनाना-(हिं. क्रि. अं.) घोड़े का हिनहिनाना ।
 हींग-(हिं. स्त्री.) एक प्रकार के वृक्ष का जमाया हुआ गाँद या दूध जो मसालों में व्यवहार किया जाता है, (इसमें बड़ी तीव्र गन्ध होती है), हिगु ।
 हींछा-(हिं. स्त्री.) इच्छा ।
 हींस-(हिं. स्त्री.) घोड़े या गदहे के बोलने का शब्द, रेंकना, हिनहिनाहट ।
 हींसना-(हिं. क्रि. अं.) हिनहिनाना, रेंकना ।
 हींहीं-(सं. स्त्री.) हँसने का शब्द ।
 ही-(सं. अव्य.) वह शब्द जो वात पर जोर देने अथवा स्वीकृति, परिमिति, निश्चय, अल्पता आदि सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ।
 हीअ-(हिं. पुं.) देखें 'हिय', हृदय ।
 होक-(हिं. स्त्री.) हिचकी, हलकी दुर्गंध जिससे मतली आने लगती है ।
 होचना-(हिं. क्रि. अं.) देखें 'हिचकना' !
 हीछना-(हिं. क्रि. स.) इच्छा करना ।
 हीठना-(हिं. क्रि. अं.) पास जाना, समीप होना ।

हीन—(सं. वि.) त्यक्त, छोड़ा हुआ, अल्प, तुच्छ, कम, सुखसमृद्धिरहित, दीन, नीच, निष्कपट, वुरा, शून्य, वंचित, ओछा; (पुं.) अप्रमाणिक साक्षी या गवाह, अधम नायक; —कर्मा—(वि.) वुरा काम करनेवाला, अपना निर्दिष्ट कर्म न करनेवाला; —कुल—(वि.) नीच या वुरे कुल का; —क्रम—(पुं.) काव्य का वह दोष जो उस स्थान पर माना जाता है जहाँ वणित विषयों के क्रम का सम्यक् निर्वाह न हुआ हो; —चरित—(वि.) जिसका आचरण वुरा हो; —ज—(वि.) नीच जाति से उत्पन्न; —जाति—(स्त्री.) नीच जाति या वर्ण; —ज्ञा—(स्त्री.) क्षुद्रता, नीचता; —स्व—(पुं.) तुच्छता; —दध—(वि.) थोड़ा जला हुआ; —पक्ष—(पुं.) दुर्बल या समथित न होनेवाला पक्ष; —बल—(वि.) शक्तिहीन; —बाहु—(पुं.) शिव के एक गण का नाम; —बुद्धि—(वि.) जड़, मूर्ख; —मति—(वि.) बुद्धिहीन; —मूल्य—(वि.) कम दाम का; —ग्रान—(पुं.) बौद्ध भगवान्‌मियों की एक प्राचीन शाखा जिनके धर्मग्रन्थ पाली भाषा में हैं; —योग—(वि.) योगभ्रष्ट; —योनि—(वि.) नीच जाति का; —रस—(पुं.) काव्य का वह दोष जिसमें किसी रस का वर्णन करते हुए उस रस के विरुद्ध दूसरे रस का वर्णन किया जाता है; —रोमा—(वि.) रोमहीन, कम रोओंवाला; —वर्ण—(पुं.) नीच जाति या वर्ण; —वाद—(पुं.) मिथ्या तर्क, झूठी बहस; —वादी—(वि.) विपरीत बातें कहनेवाला; —वीर्य—(वि.) हीनबल; —सह्य—(पुं.) नीचों के साथ मित्रता।

हीनांग—(सं. वि.) खण्डित अंगवाला, जो सर्वांगपूर्ण न हो।

हीनांगी—(सं. स्त्री.) छोटी चींटी।

हीनार्थ—(सं. वि.) अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ न हो, विफल, जिसका कार्य सिद्ध न हुआ हो।

हीनोपमा—(सं. स्त्री.) काव्य में वह उपमा जिसमें बड़े उपमेय के लिये छोटे उपमान का प्रयोग किया जाय, बड़े की छोटे से उपमा।

हीय, हीया—(हिं. पुं.) हृदय, हिया।

हीर—(सं. पुं.) इन्द्र का वज्र, शिव, मोती की माला, हीरा नामक रत्न, सपं, सिंह, विजली, एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में अठारह वर्ण होते हैं,

एक मात्रिक छन्द का नाम; (हिं. पुं.) सार, गूदा, शवित, बल, वीर्य, लकड़ी के भीतर का सार-भाग।

हीरक—(सं. पुं.) हीरा नामक रत्न।

हीरा—(सं. स्त्री.) लक्ष्मी, चींटी; (हिं. पुं.) एक रत्न जो कड़ाई और चमक के लिये प्रसिद्ध है, अति उत्तम वस्तु।

हीराकसीस—(हिं. पुं.) लोहे का वह विकार जो गन्धक के रासायनिक योग से बनता है, (यह देखने में कुछ हरापन लिये मटमैले रंग का होता है।)

हीरादोषी—(हिं. स्त्री.) विजयसाल का गोंद।

हीरानखी—(हिं. पुं.) एक प्रकार का बारीक धान।

हीरामन—(हिं. पुं.) सुग्गे की एक कल्पित जाति जो सोने के रंग की मानी जाती है।

हीला—(अ. पुं.) वहाना, वनावट; —हवाला—(पुं.) टालमटोल।

ही ही—(हिं. स्त्री.) जोर से ही-ही करते हुए हँसना, उच्च हास्य का शब्द, हँसते हुए उपहास करना।

हुं—(सं. अव्य.) तन्त्रोक्त वीज-मन्त्र का शब्द।

हुं—(हिं. अव्य.) स्वीकृतिसूचक शब्द, हाँ।

हुकना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'हुंकारना'।

हुंकार—(हिं. पुं.) ललकार, गरज।

हुंकारना—(हिं. क्रि. अ.) ललकारना, गरजना।

हुंकारी—(हिं. स्त्री.) 'हुं' करने की क्रिया, मानना, हामी, एक स्वीकृति-सूचक शब्द; (मुहा.) —भरना—स्वीकृति देना।

हुंड—(सं. पुं.) व्याघ्र, बाघ, सूअर, राक्षस, जड़-बुद्धि या मूर्ख व्यक्ति।

हुंडन—(सं. पुं.) शिव के एक गण का नाम।

हुंडा—(हिं. पुं.) वह घन जो ढर पक्षवाले कन्या के पिताको विवाह-कृत्य के लिये देते हैं।

हुंडार—(हिं. पुं.) वृक, भेंड़िया।

हुंडावन—(हिं. पुं.) वह रकम जो हुंडी लिखते समय वट्टे के रूप में काट ली जाती है।

हुंडी—(हिं. स्त्री.) आपस में लेन-देन करनेवाले महाजनों या व्यापारियों में कोई निश्चित रकम देने या दिलाने के लिए किसी महाजन के नाम लिखित प्रतिज्ञा-पत्र, कर्ज देने का एक प्रकार; —वही—(स्त्री.) वह किताब या बही जिसमें सब तरह की हुंडियों की प्रतिलिपि रहती है; दर्शनी

हुंडी—(स्त्री.) वह हुंडी जिसको दिखलाते

ही रूपया चुका देना होता है; (मुहा.) —सकारना—हुंडी के रुपये देना स्वीकार करना।

हुंते (ते)—(हिं. प्रत्य.) प्राचीन हिन्दी की तृतीया या पंचमी विभक्ति, द्वारा, वास्ते, लिये।

हु—(हिं. अव्य.) अतिरिक्त, और भी।

हुआं—(हिं. पुं.) सियार के बोलने का शब्द।

हुआं—(हिं. क्रि. अ.) सियार की तरह हुआं-हुआं करना।

हुकना—(हिं. क्रि. अ.) भलना, चूकना, विस्मृत होना।

हुकर-पुकर—(हिं. स्त्री.) व्यग्रता, अधीरता, धबडाहट, हुकर-हुकर।

हुकरना—(हिं. क्रि. अ.) देखें 'हुंकारना'।

हुकुम—(हिं. पुं.) आज्ञा।

हुकूमत—(अ. स्त्री.) शासन, राज्य, अधिकार।

हुकुर-पुकुर, हुकुर-हुकुर—(हिं. स्त्री.) शीघ्रता से सांस चलने की धड़कन।

हुक्का—(अ. पुं.) तंबाकू पीने का एक उपकरण, गुड़गुड़ी।

हुक्का-पानी—(हिं. पुं.) परस्पर हुक्का-का शब्द, पीने-पिलाने का व्यवहार, खाने-पीने का जाति-विरादरी का व्यवहार; (मुहा.)

—बंद करना—जाति से अलग करना।

हुकम—(अ. पुं.) आज्ञा, आदेश।

हुकमी—(अ. वि.) हुकम-संबंधी।

हुकमी—(हिं. स्त्री.) हिचकी।

हुजूर—(अ. पुं.) उच्च कर्मचारी को संबोधन करने का मान्य शब्द।

हुजूरी—(हिं. स्त्री.) उच्च कर्मचारी या धनी व्यक्ति के समीप रहने की क्रिया।

हुज्जत—(अ. स्त्री.) दलील, बहस।

हुज्जती—(हिं. वि.) हुज्जत-संबंधी।

हुड—(सं. पुं.) मेष, मेढा, लाठी।

हुडकना—(हिं. क्रि. अ.) बच्चे का अपने प्रिय व्यक्ति के लिये व्याकुल होकर रोना।

हुडका—(हिं. पुं.) किसी प्रिय व्यक्ति के अचानक वियोग से होनेवाली मानसिक व्यथा (विशेषतः बच्चों को)।

हुडकाना—(हिं. क्रि. स.) अधिक भयभीत और दुःखी करना, ललचाना।

हुडदंग (गा)—(हिं. पुं.) उपद्रव।

हुडक—(हिं. पुं.) एक प्रकार का डमरू के आकार का वाजा।

हुडवक—(सं. पुं.) मतवाला मनुष्य, अर्गल, लोहबंदा।

हुत—(सं. वि.) हवन किया हुआ, अग्नि में डाला हुआ; (पुं.) हवन की सामग्री,

शिव; -सुक्ष्म-(पुं.) अग्नि; -भुक्-(पुं.) विष्णु, शिव, अग्नि; -प्रिया-(स्त्री.) अग्नि की भार्या, स्वाहा; -बह-(पुं.) अग्नि, आग; -शेष-हवन की बची हुई सामग्री।
 हुता-(हि. क्रि. अ.) प्राचीन अवधी हिन्दी में "होना" क्रिया का भूतकालिक रूप, था।
 हुताग्नि-(सं. पुं.) अग्निहोत्री।
 हुताश-(सं. पुं.) अग्नि, आग, भय, डर, तीन की संख्या, चीता का वृक्ष।
 हुताशन-(सं. पुं.) अग्नि, आग।
 हुति-(सं. स्त्री.) हवन; (हि. प्रत्य.) से।
 हुतो-(हि. क्रि. अ.) (अवधी में) "होना" क्रिया का भूतकाल का रूप, था।
 हुदकाना-(हि. क्रि. स.) उमाड़ना, उसकाना।
 हुदना-(हि. क्रि. अ.) स्तब्ध होना, रुकना।
 हुन-(हि. पुं.) सुवर्ण, मुद्रा, सोना; (मुहा.)-बरसना-वन की अधिकता होना।
 हुनना-(हि. क्रि. स.) हवन करना, आहुति देना।
 हुनर-(फा. पुं.) कारीगरी।
 हुन्न-(हि. पुं.) देखें 'हुन'।
 हुब्द-(अ. स्त्री.) अनुराग, चाह, उत्साह।
 हुमकना-(हि. क्रि. अ.) उछलना-कूदना, पैरों से बल लगाकर उठना, ठुमकना, तानना।
 हुमगना-(हि. क्रि. अ.) देखें 'हुमकना'।
 हुदंग(गा)-(हि. पुं.) देखें 'हुडंग'।
 हुदुर-(हि. पुं.) एक बरसाती पौधा।
 हुदुरिया-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का पक्षी।
 हुदृक-(सं. पुं.) हाथी का अंकुश।
 हुदुमी-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का नाच।
 हुल-(सं. पुं.) एक प्रकार का दोधारा छुरा।
 हुलकना-(हि. क्रि. अ.) वमन करना।
 हुलकी-(हि. स्त्री.) वमन, हैजे का रोग।
 हुलना-(हि. क्रि. स.) लाठी से ठेलना।
 हुलसना-(हि. क्रि. अ.) आनन्द से फूलना, उमड़ना, बढ़ना।
 हुलसाना-(हि. क्रि. स.) हर्ष की उमंग उत्पन्न करना।
 हुलसी-(हि. स्त्री.) आनन्द, हुलास, कुछ लोगों के अनुसार तुलसीदास की माता का नाम।
 हुलहुल-(हि. पुं.) एक प्रकार का बरसाती पौधा, हुदुर।
 हुलहुली-(हि. पुं.) आनन्द-उत्सव के समय स्त्रियों द्वारा एक माय मिलकर किया जानेवाला अस्पष्ट शब्द।

हुलाना-(हि. क्रि. स.) लाठी से ठेलना।
 हुलास-(हि. पुं.) आनन्द की उमंग, उत्साह; (स्त्री.) सुँधनी; -दानी-(स्त्री.) सुँधनी रखने की डिबिया।
 हुलासी-(हि. वि.) उत्साही, आनन्दी।
 हुलिया-(अ. पुं.) चेहरा, शकल, शकल-सूरत का व्योरा।
 हुलु-(सं. पुं.) भेड़ा।
 हुलूक-(हि. पुं.) एक जाति का वंदर।
 हुल्ल-(सं. पुं.) एक प्रकार का नृत्य।
 हुल्लड़-(हि. पुं.) उपद्रव, ऊधम, दंगा, हलचल, आन्दोलन।
 हुल्लास-(सं. पुं.) एक प्रकार का छन्द।
 हुश-(हि. अव्य.) अनुचित बात आदि बोलने से रोकने के लिये यह शब्द कहा जाता है।
 हुसियार-(हि. वि.) चतुर।
 हुसैनी कान्हड़ा-(हि. पुं.) सम्पूर्ण जाति का एक राग।
 हुस्यार-(हि. वि.) चतुर।
 हुहव-(सं. पुं.) एक नरक का नाम।
 हुहु-(सं. पुं.) एक गन्धर्व का नाम।
 हुं-(हि. अव्य.) स्वीकारसूचक शब्द, (क्रि. अ.) 'होना' क्रिया का उत्तम पुरुष एकवचन का रूप।
 हुँकना-(हि. क्रि. अ.) गाय का जोर से बोलना, जोर से रोना, किसी बात को याद करके रोना, वीरों का ललकारना।
 हुँठा-(हि. पुं.) साढ़े तीन का पहाड़।
 हुँडा-(हि. स्त्री.) सिंचाई आदि कार्यों में किसानों का परस्पर सहायता लेना-देना।
 हुँस-(हि. स्त्री.) ईर्ष्या, डाह, कोसना, फटकार।
 हुँसना-(हि. क्रि. स.) दृष्टि लगाना, ईर्ष्या से जलना, फटकारना, कोसना।
 हुक-(हि. स्त्री.) हृदय की पीड़ा, दर्द, खटका।
 हुकना-(हि. क्रि. अ.) पीड़ा होना, पीड़ा से चौक उठना।
 हुटना-(हि. क्रि. अ.) हटना, टलना, मुंह फेरना।
 हुठा-(हि. पुं.) अंगूठा, ठंगा; (मुहा.)-देना-किसी को चिढ़ाने के लिये अंगूठा दिखलाना।
 हुड़-(हि. वि.) असावधान, उजड़ड, अनाड़ी, हठी, जिद्दी।
 हुण-(सं. पुं.) एक प्राचीन असभ्य जाति जो ईसवी चौथी शताब्दी में एशिया तथा यूरोप के सभ्य देशों पर आक्रमण करके फैली थी।

हुत-(सं. वि.) बुलाया हुआ।
 हुन-(सं. पुं.) प्राचीन समय में प्रचलित सोने की एक मुद्रा जो तौल में पचास ग्रेन होती थी।
 हुनना-(हि. क्रि. स.) आग में डालना।
 हुनना-(हि. क्रि. स.) चुमाना, गड़ाना।
 हुरा-(हि. पुं.) लाठी का अग्रभाग, लाठी।
 हुल-(हि. स्त्री.) लासा लगा हुआ चिड़िया फँसाने का वाँस, (लाठी, भाले, डंडे, छुरे आदि की नोक से) भोंकने की क्रिया, कोलाहल, आनन्द का शब्द, ललकार, आनन्द।
 हुलना-(हि. क्रि. स.) (लाठी, भाले आदि की) नोक को गड़ाना या घँसाना, गोदना, चुमाना।
 हुलां-(हि. पुं.) शस्त्र आदि से हूलने की क्रिया।
 हुश-(हि. वि.) अशिष्ट, असभ्य, गँवार।
 हुह-(सं. पुं.) एक प्रकार के गन्धर्व।
 हुहं-(हि. पुं.) अग्नि के जलने का शब्द।
 हुच्छय-(सं. पुं.) कन्दर्प, कामदेव।
 हुच्छूल-(सं. पुं.) हृदय का शूल (रोग)।
 हुच्छोक-(सं. पुं.) हृदय का शोक।
 हुच्छोष-(सं. पुं.) हृदय के भीतर की शुष्कता।
 हुत्-(सं. पुं.) हृदय, वक्षःस्थल।
 हुत-(सं. वि.) हरण किया हुआ, लिया हुआ।
 हुति-(सं. स्त्री.) हरण, नाश, लूट।
 हुत्कंप-(सं. पुं.) हृदय का कम्प, धड़कन, जो दहलना।
 हुत्ताप-(सं. पुं.) हृदय की जलन।
 हुत्पिड-(सं. पुं.) हृदय का कोप।
 हुत्पीडन-(सं. पुं.) छाती की पीड़ा।
 हुत्पीड़ा-(सं. स्त्री.) हृदय की पीड़ा।
 हुत्पुंडरीक-(सं. पुं.) हृदयरूपी कमल।
 हुत्प्रतिष्ठ-(सं. वि.) हृदय में स्थित।
 हुत्पुष्कर-(सं. पुं.) हृदयरूपी पद्म।
 हुत्प्रिय-(सं. पुं.) हृदय को प्रिय।
 हुद्-(सं. पुं.) हृदय, मन।
 हुदयंगम-(सं. पुं.) मन में बैठता हुआ, उपयुक्त, मनोहर, सुंदर।
 हुदय-(सं. पुं.) वक्षःस्थल, चेतना-स्थान, अन्तःकरण, मन, विवेक, बुद्धि, अन्तःरात्मा, किसी वस्तु का सार भाग, हीर, तत्व, गूढ रहस्य, अत्यन्त प्रिय व्यक्ति, प्राणाधार; -प्रिय-(स्त्री.) हृदय की गाँठ; -ग्रह-(पुं.) हृदय फटकने का रोग; -ग्राह-(पुं.) रहस्य जान लेना; -ग्राही-(वि.) मन को लुनानेवाला;

रुचिकर; -चौर-(पुं.) मन को मोहने-
वाल, व्यक्ति; -ज-(वि.) अन्तःकरण से
उत्पन्न; -ज्ञ-(वि.) मन के भाव को
जाननेवाला; -दाही-(वि.) हृदय
जलानेवाला; -निकेत-(पुं.) मनसिज,
कामदेव; -प्रमाथी-(वि.) मन को
मोहनेवाला; -प्रिय-(वि.) अत्यन्त
प्यारा; -वल्लभ-(पुं.) प्रियतम, प्रेम-
पात्र; -वान्-(वि.) प्रेमी, रसिक;
-विदारक-(वि.) अत्यन्त शोक,
करुणा अथवा दया उत्पन्न करनेवाला;
-वृत्ति-(स्त्री.) अन्तःकरण की
वृत्ति; -वेधी-(वि.) मन को वेधन
करनेवाला, बहुत बुरा लगनेवाला;
-व्याधि-(स्त्री.) हृदय का रोग; -शोक-
(पुं.) हृदय का कष्ट या शोक; -स्थ-
(वि.) हृदय में रहनेवाला; -स्थान-
(पुं.) वक्षःस्थल; -स्पर्शी-(वि.)
हृदय पर प्रभाव डालनेवाला, मन में
दया उत्पन्न करनेवाला; -हारी-(वि.)
मन मोहनेवाला, जी को लुमानेवाला।

हृदयालु-(सं. वि.) सहृदय, सुशील।
हृदयेश-(सं. पुं.) पति, स्वामी, प्रेमपात्र।
हृदयेश्वर-(सं. पुं.) पति, स्वामी।
हृदयेशा-(सं. स्त्री.) भार्या, पत्नी।
हृदयोन्मादिनी-(सं. वि.) हृदय को उन्मत्त
या मुग्ध करनेवाली।
हृदिस्पृश-(सं. वि.) सुंदर, मनोहर।
हृद्ग-(सं. वि.) हृदय में जानेवाला।
हृद्गत-(सं. वि.) आन्तरिक, मन का,
चित्त में आया हुआ, रुचिकर, प्रिय।
हृद्ग्रह-(सं. पुं.) हृदय की पीड़ा।
हृद्ग्रह-(सं. पुं.) कलेजे की जलन।
हृद्य-(सं. पुं.) जीरा, दालचीनी, कैथ,
दही, मधु की शराव; (वि.) हृदय
का, भीतरी, हृदय को अच्छा लगनेवाला,
सुंदर, सुहावना; -गंध-(पुं.) सफेद
जीरा, बेल का पेड़; -गंधा-(स्त्री.)
अजमोदा; -ता-(स्त्री.) सद्भाव, प्रेम।
हृद्गंशु-(सं. पुं.) चन्द्रमा।
हृद्गुज-(सं. स्त्री.) हृदय की पीड़ा।
हृद्गोग-(सं. पुं.) हृदय का रोग।
हृद्दवर्ती-(सं. वि.) हृदयस्थ।
हृन्मोह-(सं. पुं.) हृदय का मोह।
हृल्लास-(सं. पुं.) हिक्का रोग, हिचकी।
हृल्लेख-(सं. पुं.) ज्ञान, तर्क।
हृल्लेखा-(सं. स्त्री.) उत्सुकता, व्यग्रता,
व्याकुलता।
हृपि-(सं. स्त्री.) आनन्द, हर्ष, कान्ति।
हृपित-(सं. वि.) विस्मृत, पुलकित, प्रणत।

हृषीक-(सं. पुं.) विषयग्राही इन्द्रियाँ।
हृषीकनाथ-(सं. पुं.) विष्णु।
हृषीकेश-(सं. पुं.) विष्णु, श्रीकृष्ण, पूस
का महीना, हरिद्वार के पास का एक
तीर्थ-स्थान।
हृष्ट-(सं. वि.) हर्षित, आनन्दयुक्त,
पुलकित, विस्मित; -पुष्ट-(वि.)
मोटा-ताजा; -मानस-(वि.) प्रसन्न-
चित्त; -रोमा-(वि.) रोमांचित,
पुलकित।
हृष्टि-(सं. स्त्री.) हर्ष, प्रसन्नता, गर्व से
फूलना।
हृष्यका-(सं. स्त्री.) संगीत में एक प्रकार
की मूर्च्छना।
हँसे-(हि. अव्य.) धीरे-धीरे हँसने का
शब्द, हीनतासूचक शब्द, गिड़गिड़ाने की
आवाज।
हँगा-(हि. पुं.) वह चौड़ा पट्टा जिससे
जोते हुए खेत की मिट्टी बराबर की
जाती है।
हँगी-(हि. स्त्री.) छोटा हँगा।
हे-(सं. अव्य.) संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्द।
हेकड़-(हि. वि.) हृष्टपुष्ट, उजड़ड़,
अक्खड़, प्रचण्ड, प्रवल।
हेकड़ी-(हि. स्त्री.) प्रचण्डता, उग्रता,
अक्खड़पन, बलात्कार।
हेठ-(हि. पुं.) बाधा, पीड़ा; (वि.) हेठा।
हेठा-(हि. वि.) तुच्छ, नीचा, कम;
-पन-(पुं.) तुच्छता, नीचता।
हेठी-(हि. स्त्री.) मानहानि, अप्रतिष्ठा।
हेडी-(हि. स्त्री.) चौपायों का समूह
जिसको वनजारे बेचने के लिये साथ-साथ
हाँकते चलते हैं; (पुं.) आखेटो, व्याध।
हेत-(हि. पुं.) देखें हेतु, कारण।
हेति-(सं. स्त्री.) अस्त्र, आग की लपट,
शिखा, घनुप की टंकार, अंकुर, अँखुआ।
हेतु-(सं. पुं.) प्रयोजन, कारण, न्याय
के अनुसार व्यापक कारण, उद्देश्य,
अभिप्राय, तर्क, तर्कशास्त्र, वह अर्था-
लंकार जिसमें कारण ही कार्य कहा जाता
है; -क-(वि.) कारण-संबंधी; -मान-
(वि.) जिसका कोई हेतु या कारण हो;
-रूपक-(पुं.) वह अलंकार जिसमें
हेतु द्वारा गाम्भीर्य आदि दरसाया जाता
है; -वाद-(पुं.) तर्क-विद्या, नास्तिक-
व्यग्रता, कुतर्क; -वादी-(वि., पुं.) तर्क
करनेवाला, नास्तिक; -विद्या-(स्त्री.)
-शास्त्र-(पुं.) तर्कशास्त्र; -हेतु-
मद्भाव-(पुं.) कार्य और कारण का
सम्बन्ध; -हेतुमद् भूतकाल-(पुं.)

व्याकरण में भूतकाल का वह भेद जिसमें
ऐसी दो बातों का होना कहा जाता है
जिनमें से एक कथन दूसरे पर निर्भर हो,
यथा-यदि तुम जल्दी गये होते तो तुमको
गाड़ी मिल गई होती।
हेतुत्प्रेक्षा-(सं. स्त्री.) वह उत्प्रेक्षा अलं-
कार जहाँ हेतु द्वारा उत्प्रेक्षा होती है।
हेतुपमा-(सं. स्त्री.) वह उपमा अलंकार
जिसमें हेतु द्वारा उपमा दी जाती है।
हेत्वपह्नुति-(सं. स्त्री.) वह अपह्नुति
अलंकार जिसमें प्रकृत के निषेध का
कुछ कारण दिया जाता है।
हेत्वाभास-(सं. पुं.) हेतुदोष, वह जो
यथार्थतः हेतु नहीं है परन्तु हेतु जैसा
प्रतीत होता है, झूठा हेतु या कारण, कुतर्क।
हेमंत-(सं. पुं.) अगहन और पूस महीने
की ऋतु।
हेमंतनाथ-(सं. पुं.) कपित्थ, कैथ।
हेम-(सं. पुं.) सुवर्ण, सोना, एक माशे की
तौल, बुद्ध का एक नाम, बदामी रंग
का घोड़ा, हिम, पाला; -कंदल-(पुं.)
प्रवाल, मूंगा; -क-(पुं.) सुवर्ण-खंड;
-कर-(पुं.) शिव, सूर्य; -कर्ता-(पुं.)
सुनार; -कान्ति-(स्त्री.) दारुहल्दी;
(वि.) सोने के समान कान्तिवाला;
-कार-(पुं.) सुनार; -कट-(पुं.)
हिमालय की एक पर्वत-श्रेणी; केलि-
(पुं.) अग्नि, आग; -केश-(पुं.) शिव,
महादेव; -गर्भ-(वि.) जिसके बीच में
सुवर्ण हो; (पुं.) उत्तर दिशा का एक
पर्वत; -गिरि-(पुं.) सुमेरु पर्वत; -घन-
(पुं.) सीसा नामक धातु; -घनी-
(स्त्री.) हरिद्रा, हलदी; -चंद्र-(पुं.)
एक प्राचीन जैन आचार्य का नाम;
-चूर्ण-(पुं.) सोने की बुकनी; -ज-
(पुं.) टौन, रांगा; -ज्वाल-(पुं.)
अग्नि; -सर-(पुं.) धतूरा; -तार-
(पुं.) तुल्य, तूतिया; -तुला-(स्त्री.)
सुवर्ण का तुलादान; -दीनार-(पुं.)
सोने की मुद्रा; -दुग्ध-(पुं.) गूलर;
-धन्वा-(पुं.) ग्यारहवें मनु के एक पुत्र
का नाम; -धान्य-(पुं.) तिल या
उसका पौधा; -नेत्र-(पुं.) यक्ष;
-पर्वत-(पुं.) सुमेरु पर्वत; -पुष्प-
(पुं.) जवापुष्प, नागकेशर, अमलतास,
चम्पा का फूल; -पुष्पी-(स्त्री.)
इन्द्रवाहणी, अमलतास; -प्रभ-(वि.)
सोने के समान प्रमायुक्त; (पुं.)
विद्याधर; -प्रभा-(स्त्री.) विद्या-
धरी; -मय-(वि.) सुवर्णनिर्मित,

सोने का बना हुआ; -माली-(पुं.) एक राक्षस जो खर का सेनापति था; -मित्र-(पुं.) फिटकरी; -ल- (पुं.) कृकलास, गिरगिट; -लता-(स्त्री.) सोमलता, ब्राह्मी, एक शाक; -वल-(पुं.) मुक्ता, मोती; -शंख-(पुं.) विष्णु; -सुता-(स्त्री.) पार्वती, दुर्गा।
 हैमांग-(सं. पुं.) गरुड़, विष्णु, चम्पक वृक्ष; (वि.) सुवर्णमय शरीरवाला।
 हैमांगद-(सं. पुं.) वसुदेव के एक पुत्र का नाम।
 हैमांचल-(सं. पुं.) सुमेरु पर्वत।
 हैमांबुज-(सं. पुं.) सुवर्ण के रंग का पद्म।
 हैमा-(सं. स्त्री.) एक अप्सरा का नाम।
 हैमाद्रि-(सं. पुं.) सुमेरु पर्वत।
 हैमाल-(सं. पुं.) एक राग का नाम।
 हैमा-(सं. स्त्री.) एक संकीर्ण राग का नाम।
 हैम-(सं. वि.) त्याज्य, छोड़ने योग्य, निष्कृष्ट, बुरा।
 हैरंब-(सं. पुं.) गणेश; भीसा, धीरोद्धत नायक; -जननी-(स्त्री.) पार्वती।
 हैर-(सं. वि.) किरीट, हल्दी; (हि. स्त्री.) डंडना।
 हैरना-(हि. क्रि. स.) खोजना, जाँच-पड़ताल करना; -फेरना-(क्रि. स.) इधर-उधर करना, अदल-बदल करना।
 हैरफेर-(हि. पुं.) चक्कर, घुमाव, बातों का भांडस्यार, अन्तर, उलट-पलट, कुटिल मुक्ति, दाँव-पेंच।
 हैराना-(हि. क्रि. स.) खोजवाना।
 हैराना-(हि. क्रि. अ., स.) अभाव होना, खो जाना, नष्ट होना, लुप्त हो जाना, अपनी सुखदुःख खो देना, लीन होना, तन्मय होना, देखें 'हेरवाना'।
 हैराफेरी-(हि. स्त्री.) अदल-बदल, इधर-उधर होना या करना।
 हैरक-(सं. पुं.) भेद लेनेवाला दूत।
 हैरी-(हि. स्त्री.) पुकार, गुहार देना, आह्वान।
 हैरुक-(सं. पुं.) बुद्धदेव, गणेश।
 हैल-(हि. पुं.) घनिष्ठता, मेलजोल (मेल के साथ प्रयुक्त)।
 हैलन-(सं. पुं.) अवज्ञा करना, तिरस्कार, क्रीड़ा करना।
 हैलना-(हि. क्रि. अ., स.) क्रीड़ा करना, विनोद करना, हैसी उड़ाना, ध्यान न देना, जल में प्रवेश करना, पैठना, परवाह न करना, तुच्छ समझना, अवज्ञा करना।
 हैलमेल-(हि. पुं.) मेलजोल, मित्रता, घनिष्ठ सम्बन्ध, परिचय, संग-साथ।

हेलया-(सं. अव्य.) खेल में, सहज में।
 हेला-(सं. स्त्री.) स्त्रियों की मोहक चेष्टा, अवज्ञा, तिरस्कार, केलि-क्रीड़ा, चाँदनी, क्रीड़ा, खेल; (हि. पुं.) पुकार, चिल्लाहट, आक्रमण, चढ़ाई, उठने का काम, खेप, वारी, मैला उठाने का काम, मेहतर।
 हेलि-(सं. पुं.) सूर्य; (स्त्री.) आलिंगन।
 हेलिन-(हि. स्त्री.) डोमिन।
 हेली-(हि. स्त्री.) सहेली, सखी।
 हेवंत-(हि. पुं.) देखें 'हेमंत'।
 हेष-(सं. पुं.) घोड़े का हिनहिनाना।
 हैं-(हि. अव्य.) एक आश्चर्यसूचक शब्द, असम्मतिसूचक शब्द; (क्रि. अ.) "होना" क्रिया के वर्तमान काल बहुवचन का रूप।
 हैस-(हि. स्त्री.) एक प्रकार का छोटा पीघा।
 है-(हि. क्रि. अ.) "होना" क्रिया के वर्तमान काल एकवचन का रूप।
 हैकड़-(हि. वि.) देखें 'हेकड़'।
 हैकल-(हि. स्त्री.) घोड़े के गले में पहनाने का एक गहना, स्त्रियों के गले में पहनने की एक प्रकार की माला, हुमेल।
 हैजा-(अ. पुं.) कैं-दस्त की संक्रामक महामारी, विषुचिका।
 हैतुक-(सं. वि.) जिसका कोई हेतु हो, कारण-संबंधी, तार्किक; (पुं.) सन्देह करनेवाला, नास्तिक, तार्किक, कुतर्की।
 हैना-(हि. क्रि. स.) मारना, हनन करना।
 हैमंत-(सं. वि.) हेमन्त ऋतु-सम्बन्धी।
 हैस-(सं. पुं.) प्रातःकाल के ओस का पानी, शिब, हिमालय, ओस, पाला; (वि.) सुवर्णमय, सोने का, सुनहले रंग का, पाले का, जाड़े का।
 हैमन-(सं. वि.) हेमन्त ऋतु में होनेवाला, सोने का।
 हैमवत-(सं. वि.) हिमालय-संबंधी, हिमालय का; (पुं.) हिमालय का निवासी।
 हैमवती-(सं. स्त्री.) पार्वती, उमा, हरें, गंगा, हल्दी, यूहर, खिरनी।
 हैमा-(सं. स्त्री.) पीली चमेली।
 हैमी-(सं. स्त्री.) केतकी।
 हैरंब-(सं. वि.) गणेश-संबंधी; (पुं.) गणेश का उपासक।
 हैरण्य-(सं. वि.) हिरण्य-संबंधी, सोने का।
 हैवान-(अ. पुं.) जानवर, पशु।
 हैवानी-(हि. स्त्री.) पशुता।
 हैसियत-(अ. स्त्री.) सामर्थ्य, विसात, मालियत, निजी संपत्ति, ओहदा, पद; -दार-(वि.) हैसियतवाला।

हैहय-(सं. पुं.) सहस्रार्जुन, पश्चिम दिशा का एक पर्वत, एक क्षत्रिय वंश का नाम।
 हैहयराज, 'हैहयाधिराज'-(सं. पुं.) सहस्रार्जुन।
 हैहै-(हि. अव्य.) हाय-हाय।
 हों-(हि. क्रि. अ.) "होना" क्रिया का सम्भावनासूचक बहुवचन रूप।
 होंठ-(हि. पुं.) ओष्ठ, ओठ; (मुहा.) -चबाना-क्रोध से ओठों को दाँतों से काटना।
 होंठल-(हि. वि.) मोटे-मोटे ओष्ठोंवाला।
 होंठी-(हि. स्त्री.) किनारा, धार, छोर, टुकड़ा।
 हों-(सं. पुं.) पुकारने का शब्द, हे; (हि. क्रि. अ.) "होना" क्रिया का सम्भावनासूचक, मध्यम पुरुष, बहुवचन के वर्तमान काल का रूप।
 होड़-(हि. स्त्री.) स्पर्धा, बराबर होने का प्रयत्न, बराबरी, हठ, बाजी, शर्त।
 होड़ा-बादी, होड़ा-होड़ी-(हि. स्त्री.) चढ़ा-उपरी, दूसरे की बराबरी करने का प्रयत्न, लागडाँट।
 होतब-(हि. पुं.) होनहार, होनेवाली बात।
 होतव्य-(हि. पुं.) भवितव्यता, होनहार।
 होतव्यता-(हि. स्त्री.) भवितव्यता, होनहार।
 होता-(सं. पुं.) यज्ञादि में आहुति देनेवाला पुरोहित, यज्ञकर्ता; (वि.) हवन करनेवाला।
 होत्र-(सं. पुं.) हवि, होम।
 होत्री-(सं. पुं.) देखें 'होता'।
 होनहार-(हि. वि.) भावी, जो होनेवाला हो, अच्छे लक्षणों का, जिसमें उन्नति के लक्षण हों; (पुं, स्त्री.) भवितव्यता।
 होना-(हि. क्रि. अ.) अस्तित्व रखना, उपस्थित रहना, एक रूप से दूसरे रूप में आना, भुगतना, घटित किया जाना, बनाया जाना, कोई संयोग आ पड़ना, कोई काम निकलना, हानि पहुँचना; (मुहा.) कहीं का होना-कहीं पर जाकर टिक जाना; कहीं से होते हुए-किसी मार्ग से जाते हुए; हो आना-किसी से भेंट करके लौट आना; -जाना-पूर्ण होना।
 होनी-(हि. स्त्री.) होनहार, होनेवाली घटना या बात, भवितव्यता।
 होम-(सं. पुं.) आहुति देने का कर्म, किसी देवता के उद्देश्य ने अग्नि में तिल, जौ आदि डानना, यज्ञ, हवन; (मुहा.) -कर देना-मस्म करना, नष्ट कर देना;

—काष्ठी—(स्त्री.) यज्ञ की अग्नि सुलगाने की फुंकीनी; —कुंड—(पुं.) वह कुंड या गड्ढा जिसमें हवन किया जाता है; —नुरंग—(पुं.) अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा; —दुह—(पुं.) होम के लिये दूध दुहने-वाला; —धनु—(स्त्री.) वह गाय जिसके घी से हवन होता है ।
 होमना—(हिं. क्रि. स.) हवन करना, छोड़ देना, जप्त करना ।
 होमाग्नि—(सं. स्त्री.) यज्ञ की अग्नि ।
 होमीय—(सं. वि.) होम-संबंधी ।
 होर—(हिं. वि.) ठहरा हुआ, रुका हुआ ।
 होरसा—(हिं. पुं.) पत्थर की गोल चिकनी चौकी जिस पर चन्दन रगड़ा जाता है अथवा रोटी बेली जाती है, चौका ।
 होरहा—(हिं. पुं.) चने का हरा दाना, आग में भूना हुआ चने का हरा दाना ।
 होरा—(सं. स्त्री.) एक राशि या लग्न का आधा भाग, दिन-रात का चौबीसवाँ भाग, अढ़ाई घड़ी का समय, जन्म-कुण्डली, चिह्न ।
 होरिल—(हिं. पुं.) नवजात बालक ।
 होरिहार—(हिं. पुं.) होली खेलनेवाला ।
 होरी—(हिं. स्त्री.) वह बड़ी नाव जो जहाजी माल उतारने-चढ़ाने के काम में आती है, देखें 'होली' ।
 होलक—(हिं. पुं.) आग में भूनी हुई हरा चना या मटर की फलियाँ ।
 होला—(सं. स्त्री.) होली का त्यौहार; (पुं.) आग में भूनी हुई हरा चना या मटर की फली, चने का हरा दाना ।
 होलाक—(सं. पुं.) आग की गरमी पहुँचाकर पसीना लाने की विधि ।
 होलाका—(सं. स्त्री.) वसन्तोत्सव, होली का त्यौहार, फाल्गुन मास की पूर्णमासी ।
 होलाष्टक—(सं. पुं.) होली के त्यौहार के पहले के आठ दिन जिनमें विवाहादि कृत्य वर्जित हैं ।
 होलािका—(सं. स्त्री.) होली का त्यौहार, लकड़ी, घास-फूस आदि का ढेर जो होली के दिन जलाया जाता है, एक राक्षसी का नाम ।
 होली—(हिं. स्त्री.) हिन्दुओं का एक त्यौहार जो फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, (इसमें लोग एक दूसरे पर रंग और कुंकुम डालते हैं); (मुहा.)—खेलना—

एक दूसरे के ऊपर रंग, अवीर, आदि डालना, होली में गाया जानेवाला गीत ।
 होश—(फा. पुं.) संज्ञा, चेतना, सुधबुध, स्मरण, समझ ।
 होशियार—(फा. वि.) समझदार, अक्लमंद, बुद्धिमान् ।
 होशियारी—(फा. स्त्री.) समझ, बुद्धिमान्नी ।
 होस—(हिं. पुं.) देखें 'होश', चेतना ।
 हो हो—(हिं. अव्य.) सम्बोधन का शब्द ।
 होँ—(हिं. सर्व.) ब्रजभाषा में "मै" के लिये प्रयुक्त शब्द; (क्रि. अ.) 'होना' क्रिया का वतमानकालिक उत्तम पुरुष का रूप, हूँ ।
 होँकना—(हिं. क्रि. स.) आग सुलगाना, धौंकना, हाँफना, गरजना ।
 होँस—(हिं. स्त्री.) देखें 'होस', उमंग ।
 हो—(हिं. क्रि. अ.) ब्रजभाषा में "होना" क्रिया का भूतकाल का रूप, था ।
 होआ (वा)—(हिं. पुं.) लड़कों को डराने के लिये एक कल्पित वस्तु का नाम, ।
 होका—(हिं. पुं.) प्रवल लोभ या तृष्णा, भुक्खड़पन, खाने का लालच ।
 होतभुज—(सं. पुं.) कृत्तिका नक्षत्र ।
 होताशन—(सं. वि.) अग्नि-संबंधी ।
 होतक—(सं. वि.) होता-संबंधी ।
 होत्र—(सं. पुं.) होता का भाव या कर्म ।
 होद—(हिं. पुं.) कुण्ड, छोटा जलाशय, मिट्टी का चौड़े मुँह का बड़ा पात्र, नाँद ।
 होरा—(हिं. पुं.) हल्ला, कोलाहल ।
 होली—(हिं. स्त्री.) मदिरा उतारने तथा बेचने का स्थान ।
 होले-होले—(हिं. अव्य.) मन्द गति से, धीरे-धीरे, हल्के से ।
 होस—(हिं. स्त्री.) चाह, इच्छा, अभिलाषा, कामना, उमंग, उत्साह, लालसा ।
 होसला—(अ. पुं.) सामर्थ्य, साहस, हिम्मत; —मंद—(वि.) साहसी ।
 ह्यस्—(सं. अव्य.) गत दिन, काल ।
 ह्यस्तन—(सं. वि.) (गत) कल का ।
 ह्याँ—(हिं. अव्य.) यहाँ, इस स्थान पर ।
 ह्यो—(हिं. पुं.) देखें 'हिया' ।
 ह्यद—(सं. पुं.) बड़ा तालाब या झील, सरोवर, गहरा गड्ढा, किरण ।
 ह्यदग्रह—(सं. पुं.) कुंभीर नामक जलजन्तु ।
 ह्यदनी—(सं. स्त्री.) नदी, विजली ।
 ह्यसित—(सं. वि.) छोटा किया हुआ, घटाया हुआ ।

ह्यस्व—(सं. वि.) छोटे परिमाण का, नाटा, छोटे आकार का, कम, थोड़ा, नीच, तुच्छ; (सं. पुं.) एक प्रकार का साग, हीराकसीस, व्याकरण में वे स्वर जो खींचकर नहीं बोले जाते; —क—(वि.) बहुत छोटा; —कर्ण—(पुं.) एक राक्षस; —ता—(स्त्री.) अल्पता, लघुता, छोटाई; —दा—(स्त्री.) सलाई का पेड़; —पर्ण—(पुं.) पाकर का वृक्ष; —पर्व—(पुं.) काला गन्ना; —मूला—(पुं.) खजूर, छुहारा ।
 ह्यस्वांग—(सं. वि.) नाटा, ठिगना ।
 ह्यद—(सं. पुं.) शब्द, ध्वनि, मेघ की गर्जना ।
 ह्यदिनी—(सं. स्त्री.) विद्यत्, विजली, नदी ।
 ह्यस—(सं. पुं.) क्षय, क्षीणता, कमी, शक्ति का कम होना, शब्द ।
 ह्यसन—(सं. पुं.) कम करना ।
 ह्यी—(सं. स्त्री.) लज्जा, यक्ष प्रजापति की कन्या जो धर्म को व्याही थी ।
 ह्यीक—(सं. पुं.) नेवला ।
 ह्यीका—(सं. स्त्री.) त्रास, डर, लज्जा ।
 ह्यीण—(सं. वि.) लज्जित ।
 ह्यीत—(सं. वि.) लजाया हुआ ।
 ह्यीति—(सं. स्त्री.) लज्जा, शर्म ।
 ह्योमान्—(हिं. वि.) लज्जाशील ।
 ह्योमद—(सं. वि.) लज्जा से दवा हुआ ।
 ह्योवेर—(सं. पुं.) एक प्रकार का सुगन्धित द्रव्य, सुगन्धवाला ।
 ह्यद—(सं. पुं.) आनन्द, हिरण्यकशिपु के एक पुत्र का नाम ।
 ह्यदक—(सं. वि.) प्रसन्न करनेवाला, आनन्द देनेवाला ।
 ह्यदन—(सं. पुं.) आह्लाद, प्रसन्नता; (पुं.) महादेव, शिव ।
 ह्यदिका—(सं. स्त्री.) आनन्द देनेवाली ।
 ह्यदिनी—(सं. स्त्री.) ईश्वर की एक शक्ति का नाम, विजली, वज्र, एक नदी का नाम ।
 ह्यदी—(सं. वि.) प्रसन्न ।
 ह्येषा—(सं. स्त्री.) घोड़े की हिनहिनाहट ।
 ह्यलन—(सं. पुं.) इधर-उधर लुढ़कना, थर-थराहट ।
 ह्यौं—(हिं. अव्य.) वहाँ, उस स्थान पर ।
 ह्यान—(सं. पुं.) आह्लात, दुलावा ।

Some Important Idioms and Proverbs

मुहावरे और लोकोक्तियाँ

अ

अंक देना—आलिंगन करना, गले लगाना ।
अंग अंग ढीला करना—अति शिथिल कर देना ।

अंग अंग ढीला होना—बहुत थक जाना ।
अंग अंग मुस्कुराना—अति प्रसन्न होना, बहुत खुश होना ।

अंग न लगना—भोजन का पुष्टिकारक प्रभाव शरीर पर न होना, काफी खाना खाने पर भी दुबला होना ।

अंगारे उगलना—क्रोध में आकर कठोर वचन बोलना ।

अंगारे बरसना—धूप बड़ी तेज होना, सूर्य का तीव्र होना ।

अंगारे सिर पर धरना—बड़ी आपत्ति को सहन करना ।

अंगारों पर लेटना—बहुत व्यग्र होना, घबड़ाना ।

अंगुलियाँ उठाना—ब्रदनाम होना, अपकीर्ति प्राप्त करना ।

अंगुलियाँ उठाना—ब्रदनाम करना, अपकीर्ति फैलाना ।

अंगुलियों पर गिना जाना—संख्या में बहुत कम होना ।

अंगुलियों पर न चाना—तंग करना, परेशान करना ।

अंगुलियों पर नाचना—वशीभूत होना ।

अंगुली उठाना—हानि पहुँचाने का प्रयत्न करना ।

अँगूठा चमना—बड़ी विनती करना ।

अँगूठा दिखाना—चिढ़ाना, सा जवाब देना, अस्वीकार करना ।

अँचरा पसारना—मिक्षा माँगना ।

अंजर-पंजर ढीला करना—बहुत मारना-पीटना ।

अंटी पर चढ़ना—अधिकार में आना ।

अंडा सिखावे बच्चों को चीं-चीं न कर-छोटे का अपने बड़ों को उपदेश देना ।

अंडा सेवे और कोई, लेवे दूसरा कोई—परिश्रम और कोई करे और उसका फल दूसरा कोई उठावे ।

अंडे होंगे तो बच्चे बहुत होंगे—मूल धन बना रहेगा तो सूद बहुत मिलेगा ।

अंडे सेना—बे हार बैठे रहना ।

अंतड़ियों में बल पड़ना—हँसते-हँसते पेटमें पीड़ा हो जाना ।

अंत करना—जान से मार डालना, समाप्त करना ।

अंत पाना—गुप्त भेद को जान लेना ।

अंत बुरे का बुरा-बुरा काम करने का अन्त बुरा ही होता है ।

अंत समय—मृत्युकाल, मरणका समय, आखिरी वस्तु ।

अँतड़ियाँ टटोलना—भेद या रहस्य का पता लगाना ।

अंधा क्या चाहे, दो आँखें—आवश्यक वस्तु यदि सहज में मिल जाय तो कैसा अच्छा हो ।

अंधा क्या जाने बसन्त की बहार—जिस मनुष्य ने किसी वस्तु को नहीं देखा ।

अंधाधुंध उड़ाना—धन का अविवेकित-पूर्वक अपव्यय करना ।

अंधा बगला कीचड़ खाए—मूर्ख के लिए क्षुद्र या असार वस्तु भी अमूल्य है ।

अंधा बाँटे रेवड़ी फिर फिर अपने को दे—अधिकार मिलने पर अपने ही वंश, जाति आदि के लोगों का उपकार करना सामान्य बात है ।

अंधा पीसे, कुत्ता खाए—परिश्रम करके धन कोई कमाये और उसका उपभोग कोई दूसरा ही करे ।

अंधा बन जाना—बोखे में आ जाना, धोखा खा जाना ।

अंधा बनाना—धोखा देना ।

अंधे के हाथ बटेर लगना—किसी को किसी वस्तु का सहज में मिल जाना ।

अंधे को अंधा कहने से बुरा मानता है—कटु वचन सच्चे होने पर भी सभी को बुरे लगते हैं ।

अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी—अपने घुन में लगे रहने से मूढ़ मनुष्य को अनोखी बात सूझती है ।

अंधे को अँधेरे में बड़ी दूर की सूझी—किसी मूर्ख का दूरदेशी की बात कहना ।

अंधे की लकड़ी—एक मात्र आश्रय ।

अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा—जहाँ अव्यवस्था होती है वहाँ भले-बुरे सब एक समान समझे जाते हैं ।

अंधेरे सचाना—अन्याय करना ।

अकड़ दिखाना—अभिमान करना, गर्व करना ।

अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता—अकेला मनुष्य किसी बड़े काम को नहीं कर सकता ।

अक्ल का दुश्मन—नासमझ, बुद्धिहीन, बेवकूफ ।

अक्ल का पुतला—बड़ा बुद्धिमान् पुरुष ।

अक्ल के छोड़े दौड़ाना—नाना प्रकार के विचार करना ।

अक्ल चकराना—बुद्धि काम न करना, समझ में न आना ।

अक्ल चलने जाना—बुद्धि का काम न करना ।

अक्ल पर पत्थर पड़ना—भले-बुरे का ज्ञान न होना, मति भ्रष्ट या विवेकरहित होना ।

अक्ल पर परदा पड़ना—बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल मारी जाना ।

अक्ल मारी जाना—बुद्धि भ्रष्ट होना ।

अक्ल बड़ी की भेंस—शरीर पुष्ट होने से बुद्धि नहीं बढ़ती ।

अखाड़ा जमाना—आमोद-प्रमोद के लिये एकत्रित होना ।

अखाड़ा मारना—विजय प्राप्त करना, किसी कार्य का सिद्ध होना ।

अखाड़े में (उतरना)—मुकाबला करना ।

अखाड़े से भागना—हारकर चले जाना ।

अग्नि में घी डालना—तकरार बढ़ाना, क्रोध प्रज्वलित करना ।

अगर-मगर करना—तरह-तरह के बहाने करना ।

अच्छा किया खुदाने, बुरा किया बन्दे ने—ईश्वर अच्छा ही करता है, बुरा काम मनुष्य करता है ।

अच्छे घर वायन देना—अपने से अधिक बलवान् से शत्रुता करना ।

अच्छे दिन देखना—आनन्द से जिन्दगी बिताना ।

अजीर्ण होना—कष्टसाध्य होना ।

अटकल पचू—बिना सोच-विचार किये हुए ।

अटका वनिया देय उचार—दवा हुआ मनुष्य सब-कुछ कर सकता है ।

अठखेलियाँ करना (सूझना)—उपहाम करना, दिल्लगी करना ।

अड़ंगा अड़ाना (देना)—विघ्न डालना, तरकीब लगाना ।

अड़ंगे पर चढ़ना—आधीन होना ।
 अड़ंगे पर चढ़ाना—वशीभूत करना ।
 अड़डा जमना—एकत्रित होना, इकट्ठा होना ।
 अड़डा जमाना—अधिकार करना ।
 अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न घूप—किसी बात की अति बुरी होती है ।
 अधजल गगरी छलकत जाय—ओछे मनुष्य बहुत दिखावा करते हैं ।
 अन्न जल उठ जाना (पूरा होना)—एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, मर जाना ।
 अपना उल्लू सीधा करना—अपना मतलब मिद्ध करना ।
 अपना खाना, अपना कमाना—परिवार से अलग होकर रहना ।
 अपना घर दूर से सूझता है—अपना फायदा सभी को देख पड़ता है ।
 अपना घर समझना—किसी तरह का संकोच न करना ।
 अपना पैसा खोटा तो परखैया का क्या दोष—अपने ही कुटुम्ब के लोग बुरे हों तो दूसरों को क्यों दोष देना ।
 अपना वही जो आवे काम—सच्चा मित्र वही है जो समय पर सहायता दे ।
 अपना-सा मुंह लेकर रह जाना—लज्जित होना, अवाक् होना, चुप रह जाना ।
 अपना ही राग अलापना—स्वार्थ साधन की बात करना ।
 अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग—एक साथ मिलकर कोई काम न करने की विधि ।
 अपनी कन्न आप खोदना—स्वयं अपने नाश का साधन उपस्थित करना ।
 अपनी करनी पार उतरनी—जैसी करनी वैसा फल ।
 अपनी खिचड़ी अलग पकाना—सबसे अलग रहना, निराले विचार का होना ।
 अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है—कम-जोर भी अपने स्थान पर बलवान् होता है ।
 अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता—अपनी वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता ।
 अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़—नीच लोग अपनी हानि करते हुए भी दूसरों की हानि करते हैं ।
 अपनी नौद सोना अपनी नौद जागना—स्वतंत्र रहना, किसी के आधीन न होना ।
 अपनी पगड़ी अपने हाथ—अपनी प्रतिष्ठा अपने ही हाथ होती है ।

अपनी ही गाये जाना—सर्वदा अपने-मतलब की बात कहते रहना ।
 अपनी ही पड़ी रहना—अपने लाभ का ही सर्वदा ध्यान रखना ।
 अपने दिनों को रोना—कष्टपूर्ण जीवन विताना ।
 अपने पावों पर आप कुल्हाड़ी मारना—अपने हाथों से अपनी हानि करना ।
 अपने पूत को कोई काना नहीं कहता—अपनी वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता ।
 अपने पैरों खड़ा होना—दूसरे के आश्रित न रहकर स्वावलम्बी होना ।
 अपने बछड़े के दाँत गिनना—किसी रहस्य को जान लेना ।
 अपने बल पर खड़े होना—स्वावलम्बी होना, किसी का आश्रय न लेना ।
 अपने मार्ग में कटों बोना—ऐसा काम करना जिससे अपने को हानि पहुँचे ।
 अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना—अपने मुँह से अपनी शोखी करना ।
 अपने हाथों पापड़ बलना—जान-बूझकर कष्ट उठाना ।
 अब पछताये होत क्या चिड़िया चुंग गई खेत—समय बीत जाने पर पछतावा करना ब्या है ।
 अभिलाषाओं का भवन बनाना—हवा में पुल बांधना, कल्पना मात्र करना ।
 अभी तो तुम्हारे दूध के दाँत भी नहीं दटे—तुम अभी बच्चे हो, तुमको दुनियाँ का कुछ अनुभव नहीं है ।
 अमर हो जाना—चिरस्थायी यश प्राप्त करना ।
 अमचूर बना देना—हड्डी-पसली तोड़ डालना ।
 अमल पानी करना—नशापानी करना ।
 अमीर को जान प्यारी, गरीब को दम भारी—धनिक को अपना प्राण बड़ा प्यारा होता है, वह चिरजीवी होना चाहता है, परन्तु गरीब को जान भारी जान पड़ती है ।
 अरण्य रोदन—निरर्थक कार्य ।
 अरमान निकालना—मनोकामना पूरी करना ।
 अल खामोश नीम रात्नी—मीन रहना स्वीकृति का लक्षण है ।
 अल्पाहारी सदा सुखी—थोड़ा खानेवाला रोगी नहीं होता ।
 अवसर से चकना—मीका हाथ से निकल जाना ।
 अशकियाँ लुटे और कोयले पर मोहर—बड़ी-बड़ी रकम तो बिना कुछ सोचे-

समझे खर्च की जाय परन्तु छोटी रकमों के खर्च में बहुत विचार किया जाय ।
 अस्सी आमद चौरासी का खर्च—आमदनी से अधिक व्यय करना ।
 अस्सी हजार फिरना—तुच्छ व्यक्तित्व होना, महत्त्वरहित होना ।

आ

आँख आना—आँख लाल होकर दुखना ।
 आँख उठाकर भी न देखना—ध्यान तक न लगाना ।
 आँख उठाना—हानि पहुँचाने का प्रयत्न करना, बुरी निगाह से देखना ।
 आँख ऊँची होना—प्रतिष्ठित होना ।
 आँख ऊँची न होना—शर्मिन्दा होना ।
 आँख और कान में चार अंगुल का फर्क है—देखी हुई बात को सब कोई मानता है, परन्तु सुनी हुई बात पर कोई विश्वास नहीं करता ।
 आँख का तिल खो देना—अंध हो जाना ।
 आँख, कान खोलकर चलना—अति सावधान रहना ।
 आँख की पुतली फिर जाना—मरणासन्न होना ।
 आँख के अन्धे, नाम नयनसुख—कलम पकड़ने का शऊर नहीं लेखक बनते हैं ।
 आँख खुल जाना—आश्चर्य होना ।
 आँख चीर चीर कर (फाड़कर) देखना—उत्सुक होकर देखना, घूरना ।
 आँख चुराना—लज्जा के कारण सामने न देखना ।
 आँख चूकी माल दोस्तों का—अपना वस्तु यदि सावधानी से न रक्खोगे तो चोर चुरा ले जायगा ।
 आँख जाना—अन्धा होना ।
 आँख ठंडी होना—शान्ति मिलना ।
 आँख ठहरना—रुचिकर होना, पसन्द आना ।
 आँख तरसना—देखने की बड़ी लालसा होना ।
 आँख तले न लाना—तुच्छ समझना ।
 आँख न ठहरना—चकाचीध लगना ।
 आँख न लगना—नीद न आना ।
 आँख न दीदा, काढ़ कसीदा—किसी कार्य करने में समर्थ न होकर उस कार्य को करने की चेष्टा करना ।
 आँख फोड़ना—धोखा देना ।
 आँख बंद करना—असावधान होना ।
 आँख बचा जाना—सम्मुख उपस्थित न होना ।
 आँख बदलना—वेमुरीवत होना ।
 आँख भर रोना—आँकों में आँसू आ जाना ।

आँख भर आना—आँखों में आँसू आ जाना ।
 आँख मटकाना—सैन चलाना, आँखों से संकेत करना ।
 आँख मारना—संकेत करना, सैन करना ।
 आँख मिलाना—किसी के सामने देखना ।
 आँख मुंदना—मृत्यु को प्राप्त होना ।
 आँख मुंदना—विचारपूर्वक काम न करना ।
 आँख में शील न होना—निर्लज्ज होना ।
 आँख मैली करना—वेमुरीवत होना ।
 आँख रखना—किसी से प्रेम करना; देखते रहना ।
 आँख लगना—आसक्त होना ।
 आँख से ओझल न करना—सर्वदा अपने सामने रखना ।
 आँख से दूर, झिल से दूर—दूरदेश में रहने से प्रेमभाव बहुधा कम हो जाता है ।
 आँखें उठना—देखना ।
 आँखें खुलना—सावधान होना ।
 आँखें चढ़ना—नशे में आँखें लाल होना, क्रोध करना ।
 आँखें चार होने से मोहब्वल आ जाती है—अर्थ स्पष्ट है ।
 आँखें जमीन में लग जाना—अति लज्जित होना ।
 आँखें झुक जाना—नींद आना ।
 आँखें दिखाना—डॉटना, धमकाना ।
 आँखें निकालना—डॉटना, डपटना ।
 आँखें पथरा जाना—आँखों का निमेष-रहित होना ।
 आँखें फटना—आश्चर्य युक्त होना ।
 आँखें फिरना—वेमुरीवत होना ।
 आँखें फेरना—प्रतिकूल होना ।
 आँखें बिछाना—प्रेम सहित आदर करना ।
 आँखें वैठना—अन्धा हो जाना ।
 आँखों का पानी गिर जाना—निर्लज्ज हो जाना ।
 आँखों की पट्टी खुलना—सचेत हो जाना ।
 आँखों के सामने अंधेरा छा जाना—शून्य दिखलाई पड़ना ।
 आँखों के सामने नाचना—याद आना ।
 आँखों पर ठीकरी धरना—निर्लज्ज होना ।
 आँखों पर पट्टी बाँधना—असावधान होना ।
 आँखों पर परदा पड़ना—असावधान हो जाना ।
 आँखों में कांटा होना—असह्य हो जाना ।
 आँखों में खटकना—बुरा जान पड़ना ।
 आँखों में खून उतर आना—अति क्रुद्ध होना ।
 आँखों में चर्वी छा जाना—बड़ा अमिमान होना ।
 आँखों में चुभना—बुरा लगना ।

आँखों में जगह देना—प्रतिष्ठा करना ।
 आँखों में जगह मिलना—प्रतिष्ठा प्राप्त करना ।
 आँखों में धूल झोंकना—घोखा देना ।
 आँखों में न ठहरना—अनुकूल न होना, पसन्द न आना ।
 आँखों में पालना—अत्यन्त प्रिय रखना ।
 आँखों में फिरना—बारंबार याद आना ।
 आँखों में समा जाना—बहुत प्रिय होना ।
 आँखों में से उड़ा देना—देखते-देखते चुरा लेना ।
 आँखों में हलका होना—प्रतिष्ठा कम होना ।
 आँखों से काजल चुराना—बड़ी चालाकी करना ।
 आँखों से गिरना—मान का नाश होना ।
 आँच अधिक खा जाना—अधिक पक जाना ।
 आँच खाना—हानि उठाना ।
 आँच न आने देना—कष्ट को रोकना, तकलीफ न पहुँचने देना ।
 आँत भारी तो माथ भारी—आँतों में विकार होने से सिर में पीड़ा होती है ।
 आँधी के आम—बड़ा सस्ता वस्तु ।
 आँसू एक नहीं, कलेजा टूक टूक—पाखंड, दिखावटी रुलाई ।
 आँसुओं की झड़ी लगना—अति विलाप करना ।
 आँसू पीकर रह जाना—अधिक शोक के कारण चुप रहना ।
 आँसू पीना—अपने दुःख को दबा रखना ।
 आँसू पोछना—योड़ा-सा देकर किसी को शान्त करना ।
 आँसू बहाना—विलाप करना, रोना ।
 आई तो रोजी, नहीं तो रोजा—आमदनी होने पर सुख से वीतते हैं, नहीं तो उपवास ही होता है ।
 आकाश के तारे तोड़ना—कठिन कार्य करने में उद्यत होना ।
 आकाश गंगा में नहाना—असंभव को संभव करने की चेष्टा करना ।
 आकाश-पाताल एक करना—बड़ा अन्वेषण करना, बड़ी जाँच-पड़ताल करना ।
 आकाश फट पड़ना—अति वृष्टि होना ।
 आकाश में छेद करना—बड़ी चालाकी दिखलाना ।
 आकाश में छेद हो जाना—अधिक वृष्टि होना ।
 आकाश में थगली लगाना—बड़ी चतुराई करना ।
 आकाश से बातें करना—बहुत ऊँचा होना, शेरजी हाँकना ।

आखिर करना—समाप्त करना ।
 आग दिखाना—जला भस्म कर देना ।
 आग पड़ना—बहुत गरम होना ।
 आग-पानी से गुजरना—सब तरह के कष्टों को सहन करना ।
 आग फाँकना—बहुत झूठ बोलना ।
 आग-बबूला हो जाना—अत्यन्त उत्तेजित होना ।
 आग में इंधन डालना—क्रोध बढ़ाना ।
 आग में कूदना—आपत में पड़ना ।
 आग में झोंक देना—नष्ट कर देना, आपत्ति में डाल देना ।
 आग में पानी डालना—क्रोध को शमन करना ।
 आग लगन्ते झोपड़ा, जो निकले तो सार—जब सब कुछ नष्ट होता हो तब जो कुछ मिल जाय उसी को सर्वस्व समझना चाहिये ।
 आग लगना—क्रोध आना ।
 आग लगने पर कुआँ खोदना—आपत्ति आ जाने पर उसका उपाय सोचना ।
 आग लगाकर तमाशा देखना—झगड़ा आरंभ करके प्रसन्न होना ।
 आग लगाकर पानी को दौड़ना—उपद्रव आरंभ करके शान्त करने का प्रयत्न करना ।
 आग लगाना—झगड़ा खड़ा करना, उत्तेजित करना ।
 आगा-पीछा करना—दुविधा में पड़ना, हिचकिचाना ।
 आगा-पीछा न सोचना—अपने फायदे-नुकसान का ख्याल न करना ।
 आगा रोकना—मुकाबले पर आना ।
 आगे नाथ न पीछे पगहा—किसी संबंधी या संरक्षक का न होना ।
 आगे-आगे हो लेना—किसी काम का सहज हो जाना ।
 आँट पड़ना—मनमुटाव होना ।
 आँट रखना—शत्रुता करना ।
 आज-कल के फेर में पड़ना—वत्त टालना ।
 आज-कल करना—टालमटोल करना हीला हवाला करना ।
 आज मरे कल दूसरा दिन—जब तक साँसों तब तक आशा ।
 आज्ञादी खुदा की नियामत है—स्वतन्त्रता ईश्वर का वरदान है ।
 आटे का चिराग घर रखें तो चूहा लाय, बाहर रखें तो कौआ ले जाय—बचाने का जब कोई उपाय न हो तब कुछ नहीं किया जा सकता ।

आटे दाल का भाव मालूम होना—सब प्रकार के कष्टों का अनुभव होना ।
आटे के साथ घून का पिंसा जाना—दोपी मनुष्य के साथ देने से निर्दोपी को भी कष्ट उठाना पड़ता है ।

आठ अठारह कर देना—अति कष्ट देना ।
आठ-आठ आंसू रोना—अति विलाप करना ।
आठों पहर शूली पर रहना—सर्वदा कष्ट ही कष्ट भोगना ।

आड़ी देकर बैठना—जम जाना ।
आड़े आना—आश्रय लेना, सहारा लेना ।
आड़े समय काम आना—विपत्ति काल में सहायता देना ।

आड़े हाथ लेना—मला-बुरा कहना ।
आत्मा ठंडी करना—शान्ति देना ।
आत्मा ठंडी होना—शान्ति प्राप्त करना ।
आत्मा मसोसना—दुःखी होना ।

आदमी की पेशानी दिल का आयना है—
मनुष्य के चेहरे से उसके हृदय के भावों का पता चल जाता है ।

आदमी जाने वसे, सोना जाने कसे—
संसर्ग से मनुष्य के चरित्र का पता चलता है और सोने की परीक्षा कसौटी पर कसने से होती है ।

आदमी बनना—शिष्टाचार जानना ।
आदमी बनाना—शिष्ट या सभ्य बनाना ।
आदमी मुझिकल से मिलता है—सच्चे और ईमानदार मनुष्य जल्दी नहीं मिलते ।
आदि-अन्त सोचना—पूरी तरह से विचार करना ।

आधा तीतर, आधा बटेर—अस्त व्यस्त, गड़बड़, अधूरा, अपूर्ण ।

आधी छोड़ सारी को घाव, आधी रहे न सारी पावे—अधिक लालच करने से सर्वथा हानि होती है ।

आन की आन में—अति शीघ्र, तुरत ।
आन तोड़ना—अपने निश्चय से सट जाना ।
आन निभाना—अपने निश्चय पर अटल रहना ।

आनाकानी करना—बहाना करना ।
आप-आप करना—अति शूश्रूपा या विनती करना ।

आप काज महा काज—किसी कार्य को स्वयं ही करना ठीक होता है ।

आप को आसमान पर खींचना—अपने को बहुत बड़ा जानना ।

आपको खींचना—स्वयं अलग हो जाना ।
आप बीती कहना—अपने ऊपर बीते हुए कष्ट को दूसरे से कहना ।

आप भला तो जग भला—मला मनुष्य

संसार में सभी को सज्जन समझता है ।
आप ही मियाँ मँगते द्वार खड़े दरवेश—
जो स्वयं सहायता चाहता है वह दूसरे को क्या सहायता दे सकता है ।
आपस में गिरह पड़ना—आपस में मनमुटाव होना ।

आपा खोना—अभिमान त्याग करना ।
आपा न सँभलना—अपना ही निर्वाह न हो सकना, अपना शरीर अपने अधिकार में न होना ।

आपे में आना—होश सँभालना ।
आपे में न रहना—अपने पर अधिकार खो बैठना, मदोन्मत्त हो जाना ।
आपे से निकल पड़ना—अति व्यग्र होना ।
आपे से बाहर होना—क्रोध में आकर बड़े गर्व से बोलना ।

आब आब कर मर गये सिरहाने रखा पानी—किसी से ऐसी भापा बोलना जिसको वह न समझता हो ।

आब देना (चढ़ाना)—चमकाना, पालिश करना ।

आ बला गले लग—आपत्ति में जानबूझकर पड़ना ।

आबरू खाक में मिलना—मान-मर्यादा खो बैठना, बेइज्जत होना ।

आम, ईख, नीबू, वणिक गारे ही रस देत—अर्थ स्पष्ट है ।

आम के आम गुठली के दाम—किसी कार्य में दुगुना फायदा होना ।

आम खाने से काम कि गठली गिनने से काम—मनुष्य को अपने मतलब का काम करना चाहिये, निरर्थक कार्य न करना चाहिये ।

आयँ-आयँ करना—वेमतलब बोलना ।
आया है सो जायगा राजा रंक फकीर—
जो उत्पन्न हुआ है वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा ।

आया कुत्ता खा गया तू वैठी ढोल बजा—
सामने से सब लुट गया तू देखता ही रह गया ।

आयी को रोकना—मौत से बचाना ।
आयी-गयी करना—समाप्त करना, खतम करना, माफ करना, छिपाना ।

आयु का पट्टा लिखवाकर लगाना—सर्वदा जीवित रहने की इच्छा करना ।

आये की खुशी न गये का गम—सर्वदा सन्तुष्ट रहना ।

आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास—
किसी बड़े काम करने को आये थे परन्तु तुच्छ कार्य करने लगे ।

आरती उतारना—प्रतिष्ठा करना, इज्जत करना ।

आरे चलना—अति दुःखी होना ।
आल्हा गाना—जगह-जगह समाचार फैलते फिरना ।

आव देखना न ताव देखना—सोच विचार कुछ भी न करना ।

आवभगत करना—अतिथि आदि का सत्कार करना ।

आवभगत में स्वाहा करना—नीरस व्यवहार करना ।

आवाजें कसना—मर्मवेधी बात कहना ।
आवें का आवाँ विगड़ना—संपूर्ण कुटुम्ब का दुश्चरित्र होना ।

आशाओं पर पानी फिरना—सब तरह से हताश होना ।

आसन हिलना—चलायमान होना ।

आस-पास बरसे, दिल्ली पड़ी तरसे—जो चाहता है उसको न मिलकर दूसरे को किसी वस्तु का मिलना ।

आसमान टटना—विपत्ति आना ।

आसमान दिखाना—पराजित करना, हराना ।

आसमान देखना—हार जाना ।
आसमान पर उड़ना—इतराना, गर्व करना ।

आसमान पर चढ़ना—बड़ा प्रशंसा करना ।
आसमान पर दिमाग चढ़ना—बड़ा गर्व करना ।

आसमान पर थूकना—बड़ा अभिमान करना ।
आसमान पर सिर उठाना—बहुत शौर-गुल करना ।

आसमान पर होना—उच्च पद प्राप्त करना ।
आसमान से गिरना—अनायास मिलना ।

आसमान से टक्कर खाना—बहुत ऊँचा होना ।

आसमान हिलाना (डोलना)—चलायमान होना, विचलित होना ।

आस्तीन का साँप—कपटी मित्र ।
आस्तीन चढ़ाना—लड़ने के लिये तैयार होना ।

आस्तीन में साँप पालना—छिपे दुश्मन को सहारा देना ।

आह करके रह जाना—कष्ट को चुपचाप सह लेना ।

आह पड़ना—किसी को सताने का फल मिलना ।

आह भरना—दुःख में लंबी साँस लेना ।
आहारे व्यवहारे च लज्जा नैव कार्या—
भोजन करने और व्यवहार करने में लज्जा न करनी चाहिये ।

इ

इकते इक माई के लाल पड़े हैं—संसार में एक से एक गुणी और विद्वान् पड़े हैं।
इज्जत गंवाना—मान भंग होना।
इज्जत, दो कोड़ी की न रहना—प्रतिष्ठा लो बैठना।
इज्जत विगाड़ना—अप्रतिष्ठित करना।
इतना नफा खाओ जितना दाल में नोन—थोड़ा ही मुनाफा करना चाहिये।

इतनी-सी जान और गज भर की जवान—छोटा-सा मुँह और बड़ी-बड़ी बात।
इतिश्री करना—समाप्त करना, खतम करना।
इतिश्री होना—समाप्त होना, खतम होना।
इधर-उधर कर देना—किसी वस्तु को छिपा देना।
इधर-उधर करना—वहानेवाजी करना।
इधर-उधर की हाँकना—व्यर्थ की बकवाद करना, गप हाँकना।
इधर-उधर देखना—हिचकिचाना।
इधर-उधर देखने लगना—निरुत्तर हो जाना।
इधर-उधर लगाना—चुगलखोरी करना।
इधर का न उधर का—निरर्थक, व्यर्थ, बेफायदा।
इधर की उधर लगाना—कलह उपस्थित करना।
इने-गिने—गिनती में बहुत कम, केवल काम चलाने योग्य।
इन्हीं पावों जाना—तुरत चले जाना, देर न करना।
इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया—किसी की बात पर ध्यान न देना।

ई

ईंट की लेनी, पत्थर की देनी—बदला चुकाने की विधि, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार।
ईंटों से निकल कर कीचड़ में पड़ना—एक आपत्ति से छुटकारा पाया और दूसरी आपत्ति में जा गिरा।
ईंट से ईंट बजाना—नाश होना।
ईंट का घर मिट्टी फर देना—वन और संपत्ति का नाश कर देना।
ईधन हो जाना—शक्तिहीन हो जाना।

ईद का चाँद होना—बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, मुश्किल से थोड़े समय के लिए भेंट होना।
ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया—संसार में सर्वत्र भाव्य की विचित्रता देख पड़ती है, कोई ऐश्वर्य में प्रसन्न है, कोई गरीबी में मर रहा है।
ईश्वर को प्यारा होना—थोड़ी उमर में मर जाना।

उ

उखड़ जाना—स्वीकार न करना।
उखड़ी बातें करना—हृदय से न कहना।
उखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर—जब किसी कठिन कार्य करने में लगे तो आपत्तियों से क्या डरना।
उखाड़ देना—विगाड़ना, नष्ट करना।
उगल देना—रहस्य या भेद को प्रकाशित करना।
उछलकर चलना—अभिमान दिखलाना, अपनी शक्ति के बाहर काम करना।
उछल कूद दिखलाना—शेखी हाँकना।
उछल पड़ना—अति प्रसन्न होना।
उठ जाना—मृत्यु को प्राप्त होना, व्यय होना, समाप्त होना।
उठा न रखना—कोई कसर न छोड़ रखना।
उड़कर पड़ना—बड़ी लालच करना।
उड़ती खबर पाना—अफवाह मिलना।
उड़ती चिड़िया पहचानना—मन की भावना को जान लेना।
उड़ा जाना—खा जाना, व्यय कर देना।
उड़ा देना—खो देना।
उड़ा ले जाना—चुरा लेना, अपहरण करना।
उड़ा लेना—हर लेना, ठग लेना।
उत्तर जाना—भाव मंदा होना, तेज न रहना।
उत्तार-चढ़ाव देखना—अनुभव होना, तजुर्वा होना।
उत्तारू होना—प्रस्तुत होना, तैयार होना।
उत्तावला होना—शीघ्रता करना, जल्दीवाजी करना।
उयल-पुयल होना—उलट-पलट होना।
उयल-पुयल करना—गड़बड़ी करना।
उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान—खेती सर्वोत्तम धंधा है। उससे नीचे व्यापार, नौकरी निकृष्ट कार्य है। और भीख माँगना बहुत ही हीन कार्य है।
उदरं निमित्तं बहुकृत वेपः—पेट के लिये मनुष्य सब कुछ (मले-बुरे काम) करता है।

उधार का खाना और फूस का तापना बराबर है—जिस प्रकार फूस की आग जल्दी बुझ जाती है इसी तरह से उधार लेकर खाना भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलता।
उधार दिया गाहक छोड़ा—उधार दी हुई वस्तु का दाम माँगने पर गाहक उसके पास फिर नहीं आता।
उधेड़ डालना—फाड़ डालना।
उधेड़ बुन में लगना—चिन्ता, फिर करना।
उधोस बीस का फर्क—बहुत थोड़ा अन्तर।
उपजाँह एक संग जल माहीं, जलज जोक जिमि गुण विलगाहीं—किसी मनुष्य की सब सन्तान एक प्रकृति की नहीं होती।
उफ न करना—आपत्ति आदि को चुपचाप सह लेना।
उवल पड़ना—रूढ़ होना।
उभार पर होना—बुद्धि को प्राप्त होना, बढ़ना।
उभारा देना—उत्तेजित करना, उभाड़ना, साहस बढ़ाना।
उभारा लेना—सँभालना।
उमगें मिटना—उत्साह कम होना।
उलझ पड़ना—लड़ पड़ना।
उलझन में डालना—व्यग्र करना।
उलझन में पड़ना—झंझट में फँसना।
उलट-फेर होना—परिवर्तन होना, उलट-पलट होना।
उलटा चोरकोतवाल को डाँटे—अपना दोष स्वीकार न करके पूछनेवाले पर क्रोध दिखलाना।
उलटा बाँस बरेली को—विपरीत कार्य करना।
उलटी गंगा बहना—विपरीत कार्य करना।
उलटी पट्टी पढ़ाना—उचित मार्ग से विचलित करना।
उलटी बातें कहना—असंगत वार्ता कहना।
उलटी माला फेरना—किसी का अनिष्ट चाहना।
उलटी साँस लेना—मरणसन्न होना।
उलटे पाँव जाना—तौट जाना।
उलल-जलूल बकना—वेमतलब की बातें कहना।
उल्लू बनना—मूर्ख बनना।
उल्लू बनाना—मूर्ख बनाना।
उल्लू बोलना—किसी स्थान का उजाड़ होना।

ऊ

ऊँच नीच का भेद न रखना—मदके नाथ समान-व्यवहार करना।

अँचा बोल बोलना—श्लाघा करना, अभिमान करना ।

अँचा सुनना—कम सुन पड़ना, कुछ बहुरा होना ।

अँची जगह पाना—प्रतिष्ठा प्राप्त करना ।

अँची दुकान फीका पकवान—बहुत सा आर्डर हो परन्तु तत्त्व कुछ न हो ।

अँट किस करवट बैठता है—क्या स्थिति उपस्थित होती है ।

अँट के गले में बिल्ली बाँधना—वेमेल का काम करना ।

अँट की चोरी और झुके झुके—छिपकर बड़ा काम करने का उद्योग ।

अँट के मुँह में जीरा देना—आवश्यकता अधिक होने पर अल्प मात्रा देना ।

अटपटाँग हाँकना—वेमेलत्व की बातें कहना ।

अधम मचाना—उपद्रव करना ।

अपर पड़ना—दुःख उठाना ।

अधो का लेना, न माधो का देना—स्वार्थ-परायण होना, निश्चिन्त रहना ।

असर में बीज डालना—विना मतलब का काम करना ।

ए

एँड़ी चोटी का पसीना एक करना—बड़ा कठिन परिश्रम करना ।

एक अंग वह भी गन्दा—सब पदार्थों का प्रायः अभाव ।

एक अनार सौ बीमार—आवश्यकता से अधिक माँग ।

एक आँख से देखना—समान व्यवहार करना ।

एक ईंट के लिए महल गिराना—जरा-सी बात के लिये अनर्थ मचाना ।

एक एक रंग जानना—अच्छी तरह से परिचित होना ।

एक और एक ग्यारह होते हैं—एकता में बड़ा सामर्थ्य है ।

एक का एक खाये जाना—आपस में द्वेष करना ।

एक की दस, सुनाना—एक अपशब्द कहने पर बहुतेरी गालियाँ देना ।

एक के तीन बनाना—अनुचित लाभ उठाना ।

एक के दूने से सौ केस सवाये भले—अधिक विक्री होने से अधिक लाभ होता है ।

एक चुप हजार को हरावे—मौन रहने से बकनेवाले अन्त में चुप हो जाते हैं ।

एक टक लगाना—निगाह जमाकर देखना ।

एक टाँग से फिरना—बहुत इधर उधर घूमना ।

एक तन्दुएस्ती हजार नियामत—आरोग्य रहना सर्वप्रधान है ।

एक तरफा डिगरी देना—पक्षपात दिखलाना, अपूर्ण न्याय करना ।

एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी—एक तो काम विगाड़ना दूसरे क्रोध दिखलाना ।

एक तो तितलौकी दूसरे नीम चढ़ी—एक तो स्वयं नीच दूसरे नीचों का संग ।

एक थैली के चट्टे बट्टे—एक समान, सभी बराबर के होना ।

एक दम में हजार दम—एक मनुष्य से हजारों की परवरिश ।

एक न एक रोग लगा रहना—चिन्ता न हटना, शान्ति न मिलना ।

एक न चलना—कुछ न कर सकना ।

एक न शुद्द दो शुद्द—आपत्ति पर आपत्तियाँ आना ।

एक न सुनना—कुछ न मानना ।

एक पंथ दो काज—किसी एक उद्योग से अन्य कार्य का सफल होना ।

एक पर से सौ कौवे बनाना—थोड़ी-सी बात को बहुत बढ़ा देना ।

एक बात होना—सहज होना ।

एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती—एक ही स्थान पर दो शक्तिशाली मनुष्य नहीं रहते ।

एक रस रहना—किसी प्रकार का विकार न होना ।

एक लकड़ी से सबको हाँकना—लेन देन के व्यवहार में सबको बराबर समझना ।

एक सूत्र में बाँधना—संघटित करना ।

एक सौ चौवालीस लगाना—बोलना बन्द कर देना ।

एक हाथ से ताली नहीं बजती—अकेले मनुष्य के किये कोई कार्य नहीं होता ।

एक ही साँचे में ढलना—समान विचार का होना ।

एक हो जाना—मिल जाना ।

एक होना—अद्वितीय होना, भाव-भेद न रखना ।

एकादशी को खाया द्वादशी को निकालना—एक दिन का दिया हुआ दूसरे दिन लौटाना पड़े ।

ऐ

ऐँचा तानी में पड़ना—झगड़े में फँसना ।

ऐँठ जाना—असन्तुष्ट होना ।

ऐँठ डीली करना—गर्व हटाना ।

ऐँठ दिखाना—गर्व करना, अभिमान दिखाना ।

ऐँठ निकालना—गर्व दूर हो जाना ।

ऐँठ लेना—ठग लेना ।

ऐँड़ा बँड़ा चलना—कुपथ पर चलना ।
ऐँव करने को भी हुनर चाहिए—बुरा काम करने के लिये भी चतुराई की आवश्यकता होती है ।

ऐसा वैसा समझना—सामान्य मनुष्य जानना ।
ऐसी-तैसी करना—सब बुरा-भला उपाय रचना ।

ऐसे जीने से मर जाना अच्छा—अधिक कष्ट मिलने पर मनुष्य मरण को अच्छा समझता है ।

ओ

ओखली में सिर देना—जान-बूझकर अपने को आपत्ति में डालना ।

ओछे की प्रीत बालू की भीत—ओछे मनुष्य की मित्रता स्थायी नहीं होती ।

ओढ़नी की बतार लगाना—स्त्री के प्रेम में फँसना ।

ओर-ओर न मिलना—भेद का पता न चलना ।
ओले पड़ना—आपत्तियाँ आना ।

ओस चाटे प्यास नहीं जाती—आवश्यकता अधिक होने पर थोड़ी वस्तु से सन्तोष नहीं होता ।

औ

औंधो खोपड़ी—परम मूर्ख मनुष्य ।

औंधे मुँह गिरना—हार जाना ।

औकात पर आना—असली बात प्रकट करना ।

औकात पर रहना—शक्ति के अनुसार चलना ।

औकात बसर होना—निर्वाह करना ।

औघट घाट बचाकर चलना—विपत्तियों से सावधान रहना ।

औदक होना—भय के कारण चौंक उठना ।

औन पौन करना—झल-कपट का व्यवहार करना ।

और का और हो जाना—विलकुल बदल जाना ।

और बात खोटी सही दाल रोटी—जीवन निर्वाह ही सबसे बढ़कर व्यवसाय है ।

औसान खता होना—होश विगड़ जाना ।

क

कंधी चोटी से फुरसत न मिलना—सिगार-पटार में सदा लीन रहना ।

कंगाली (मुफलिती) में आँटा मोला—एक आपत्ति रहते हुए दूसरी आपत्ति आ पड़ना ।

कंचन बरसना—अधिक धन की प्राप्ति ।

कंजूस, मक्खीचूस—बहुत बड़ा कृपण ।
कंठकनेव कंठकम्—कांटे से ही कांटा
निकाला जाता है ।

कंठक निकलना—दुःख दूर होना ।
कंठगत करना—खा लेना, याद कर लेना ।
कंठस्थ करना—जवानी याद कर लेना ।
कंधा डालना—साहस छोड़ देना ।
कंधा लगाना—सहायता करना, सहारा देना ।
ककड़ी के चोर को फाँसी नहीं दी जाती—
आधारण अपराध के लिये मृत्युदंड
नहीं दिया जाता ।

कचूमर निकालना—बुरा अवस्था करना ।
कच्चा करना—झूठा सिद्ध करना ।
कच्चा चिट्ठा—पील, गुप्त बात ।
कच्चा दिल करना—उदास होना ।
कच्चा होना—लज्जित होना ।
कच्ची गोलियाँ खेलना—पूरा अनुभव
प्राप्त करना ।

कटे जाना—कुढ़ते जाना ।
कटे पर निमक छिड़कना—दुःखी मनुष्य को
और भी दुखाना ।

कठपुतली बनाना—दूसरों के कहने में चलना ।
कड़कर बोलना—क्रोध से गरज कर बोलना ।
कड़ियाँ झेलना—दुःख सहन करना ।
कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा—एक आपत्ति
से छूटा दूसरे में गिरा ।

कतर व्योत करना—काट छाँट करना ।
कतरा के जाना—बचकर निकल भागना ।
कदम बढ़ाना—चले जाना, तेज चलना,
अग्रसर होना ।

कदर खो देता है हर बार का आना जाना—
वारंवार आने-जाने से प्रतिष्ठा कम
हो जाती है ।

कनखियों से देखना—तिरछी नजर से देखना ।

कपड़े उतारना—उगना, लूटना ।

कपड़ों से होना—स्त्रियों का रजस्वला होना ।

कपाट खुलना—ज्ञान उत्पन्न होना ।

कपालक्रिया करना—सिर फोड़ना ।

कपास तौलना—मूर्ख होना ।

कन्न में पर लटकाना—मरण के समीप होना ।

कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर—
सबका समय सर्वदा समान नहीं रहता ।

कम खर्च वालानशीन—कम खर्च में उत्तम
वस्तु मिलना ।

कमर कसना—उद्यत होना, तत्पर होना ।

कमर खोलना—कार्य समाप्त होने पर
विश्राम करना ।

कमर दूटना—निराश होना, उत्साह भंग होना ।

कमर सीधी करना—यकावट दूर करने के
लिये लेट जाना ।

कमान का निकला तीर और मुंह से निकली
बात वापस नहीं आती—अर्थ स्पष्ट है ।

कमान हो जाना—झुक जाना ।

करघा छोड़ जुलाहा जाय, नाहक चोट
बेचारा खाय—जो मनुष्य अपना काम
छोड़कर दूसरे प्रपंच में पड़ता है वह
हानि उठाता है ।

कर सेवा, पा मेवा—बड़ों का आज्ञा
पालन करने से लाभ होता है ।

करते धरते न बनना—असमर्थ हो जाना ।

करनी खाक की बात लाख की—करना कुछ
नहीं, बड़ी बड़ी बातें बनाना ।

करम फूटना—अभागा होना ।

करम हीन खेती करे, मरे वैल या सूखा पड़े—
भाग्यहीन पुरुष को किसी कार्य में
सिद्धि नहीं मिलती ।

करवट बदलना—स्वीकार न करना, परि-
वर्तन होना ।

कल ऐंठना—चित्त के भाव में परिवर्तन
करना ।

कल पड़ना—चैन मिलना ।

कलई खुलना—गुप्त बातों को प्रकट करना ।

कलई खोलना—रहस्य उद्घाटन होना, भेद
खोलना ।

कलम तोड़ना—विलक्षण बातें लिखना ।

कलमा पढ़ना—विश्वास रखना, मुसलमान
बनना ।

कलेजा खाना—परेशान करना ।

कलेजा छलनी होना—मर्मवेधी बातों से
चित्त दुखाना, कष्ट देना ।

कलेजा ठंढा होना—शान्ति मिलना ।

कलेजा तर होना—चित्त अत्यन्त प्रसन्न
होना ।

कलेजा थाम कर रह जाना—ठक रह जाना,
मन मसोस कर रहना ।

कलेजा थामना—जी कड़ा करना ।

कलेजा धकधक होना—व्यग्र होना, घबड़ाना ।

कलेजा निकाल कर घर देना—मर्म की बातों
को कहना ।

कलेजा निकालना—बहुत दुःखी होना ।

कलेजा पसीजना—दया उत्पन्न होना ।

कलेजा फटना—अत्यन्त दुःख होना ।

कलेजा बढ़ना—उत्साहित होना ।

कलेजा वाँसों उछलना—बहुत प्रसन्न होना ।

कलेजा मुंह में आना—चित्त व्याकुल होना ।

कलेजा रखना—साहस होना ।

कलेजे को मत्तलना—हृदय को चोट पहुँचाना ।
कलेजे पर हाथ धरना—चित्त में विचार
करना ।

कलेजे में छेद करना—चित्त बहुत दुखाना ।

कलेजे से लगाकर रखना—बहुत प्रेम करना ।
कलेजे से लगाना—आलिंगन करना, प्रेम
करना ।

कसर निकालना—बदला लेना ।

कसौटी पर कसना—परखना, अन्वेषण
करना ।

कहने से करना भला—बातें करने से काम
करना अच्छा होता है ।

कहा सूनी हो जाना—झगड़ा फसाद होना ।

कहाँ राजा भोज कहाँ गाँव तेली—दो
वस्तुओं में बड़ा भारी अन्तर ।

कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानमती
का कुनवा जोड़ा—बेकार की चीजों को
इकट्ठा करके भी कोई वस्तु तैयार
हो सकती है ।

कहाँ का न छोड़ना—भ्रष्ट करना, बरवाद
करना ।

कहे से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता—मनुष्य
अपनी इच्छा से काम करता है दूसरों
के कहने से नहीं करता ।

काँख में कत्तरनी रखना—कपट रूप में
हानि पहुँचाना ।

काँटा सा खटकना—बहुत अखरना ।

काँटे बौना—हानि पहुँचाना ।

काँटे से काँटा निकालना—शत्रु का नाश
शत्रु से कराना ।

काँटों पर पाँव रखना—दुःख या आपत्ति में
पड़ना ।

काँटों पर लोटना—बड़ी आपत्ति सहन
करना ।

काँटों की शैय्या पर सोना—दुःखमय जीवन
विताना ।

काँटों में हाथ पड़ना—आपत्ति में फँसना ।

काँटों में घसीटना—अति लज्जित करना ।
का वर्षा जब झूपी सुखाने, समय चूक
पुनि का पछताने—अर्थ स्पष्ट है ।

कागज काले करना—व्यर्थ की लिखा पढ़ी
करना ।

कागज पूरे होना—जीवन समाप्त होना ।
कागजी घोड़े दौड़ाना—समाचार फैलाना,
केवल पत्र-व्यवहार करते रहना ।

कागरोल करना—शोरगुल मचाना ।

काट खाने दौड़ना—भयानक रूप धारण
करना ।

काटा और उलट गया—काहकार मुकर जाना ।
काटो तो बदन में छून नहीं—अति भयनीत
होने की दशा ।

काठ की हाँड़ी आँच पर धारंवार नहीं
चढ़ती—झल धारंवार सफाव नहीं होता ।

काठ ने पाँव ठोकना—रैद कर लेना ।

कान काटना-बड़ी चालाकी करना, घोखा देना ।
 कान के कीड़े मर जाना-सुनने में बहुत बुरा लगना ।
 कान खड़े होना-सावधान होना ।
 कान खाना-शोरगुल मचाना ।
 कान खुलना-होश में आना ।
 कान छिदाय सी गुड़ खाय-जो दुःख उठाता है वही अन्त में सुख पाता है ।
 कान तक पहुँचना-सुनने में आना ।
 कान देना-ध्यान पूर्वक सुनना ।
 कान धर कर सुनना-बड़े ध्यान से सुनना ।
 कान न होना-ग्रहण न करना ।
 कान पकड़ना-किसी बुरे काम को न करने का निश्चय करना ।
 कान पड़ा शब्द सुनाई न देना-बड़ा शोर गुल होना ।
 कान पर जूँ चलना (रेंगना)-ध्यान न देना ।
 कान भरना-पिशुनता करना, चुगली खाना ।
 कान में डाल देना-किसी को कोई बात सुना देना ।
 कान में पड़ना-सुन पड़ना ।
 कान में फूँकना-चुपके से सुना देना ।
 कान होना-सुनते ही किसी बात पर विश्वास कर लेना ।
 काना फूँसी करना-भेद की बात धीरे से कान में कहना ।
 कानी कौड़ी पास में न होना-अति दरिद्र होना ।
 कानूनी शिकंजे में फँसना-अभियोग चलाना ।
 काने को काना कहना-अप्रिय सच्ची बात किसी से कहना ।
 कानोंकान खबर न होना-अत्यन्त गुप्त रखना ।
 कानों को न लगना-विश्वास में न आना ।
 कानों पर हाथ धरना-अपरिचित बन जाना ।
 कानों में तेल डालना-किसी बात को सुनने की इच्छा न होना ।
 काफिया तंग होना-विवश हो जाना ।
 काफूर होना-भाग जाना, चम्पत होना ।
 काबूल में क्या गधे नहीं होते-बुराईयाँ सर्वत्र पाई जाती हैं ।
 काम आना-मृत्यु को प्राप्त होना, मारा जाना ।
 काम कर जाना-प्रभाव डालना ।
 काम फाँ न काज फा, दुश्मन अनाज फा-वेकार आदमी ।
 काम चलाना-कुछ उपयोग में आनेवाला ।

काम तमाम करना-जान से मार डालना ।
 कामको काम सिखाता है-अभ्यास से काम करना आ जाता है ।
 काम न देना-वेकार होना ।
 काम निकालना-अभीष्ट सिद्ध होना ।
 काम न धंधा तीन रोटी बंधा-केवल पेट भरना ही मुख्य उद्देश्य होना ।
 काम प्यारा है, चाम नहीं-अर्थ स्पष्ट है ।
 कायें कायें लगाय रखना-कलह करना ।
 कायापलट होना-बहुत बड़ा परिवर्तन होना ।
 काल कवलित होना-मृत्यु को प्राप्त होना ।
 कालचक्र में पड़ना-विपत्ति में फँसना ।
 काला अक्षर भँस बराबर होना-निरक्षर मूर्ख होना ।
 कालिख लगना-वेदनाम होना ।
 कासा दीज, वासा न दीज-अपरिचित को भोजन देना चाहिये, घर में टिकाना न चाहिये ।
 किकर्तव्यविमूढ़ होना-अपना कर्तव्य न समझना ।
 किताब का कीड़ा-अधिक पढ़नेवाला मनुष्य ।
 किनारा करना-अलग हो जाना ।
 किनारे लगना-पूरा होना, समाप्त होना ।
 किनारे लगाना-पार उतारना ।
 किनारे हो जाना-नष्ट होना, विगड़ जाना ।
 किया आगे आना-अपने किये का फल प्राप्त होना ।
 किया कराया बराबर करना-सब परिश्रम व्यर्थ हो जाना ।
 फिर किरा होना-मार्ग छोड़ देना ।
 किया चाहे चाकरी राखा चाहे मान-नौकरी करने पर मान-प्रतिष्ठा नहीं रहती ।
 किस खेत की मूली-नुच्छ व्यक्ति ।
 किस चिड़िया का नाम-अपरिचित व्यक्ति ।
 किसी की कुछ नहीं चलती जब तकदीर फिरती है-भाग्य के आग किसी का कुछ नहीं चलता ।
 किस्मत खुलना-अच्छे दिन आना ।
 किस्मत फूटना-मन्द भाग्य होना ।
 किस्मत लड़ना-भाग्य के अनुकूल होना ।
 किसी गिनती में न होना-कुछ महत्त्व न रखना ।
 किसी मर्जे की दवा नहीं-किसी काम का न होना ।
 किस्सा तमाम होना-झगड़ा निवट जाना ।
 कींच उछालना-नीचता करना ।
 कींच में पत्थर फँकना-नीच पुरुष से झमेला करना ।

कुठित छुरी से गला रेतना-अत्यन्त कष्ट पहुँचाना ।
 कुआँ खोदना-हानि करने का उद्योग करना ।
 कुएँ में भाँग पड़ना-सब की अवलमाराजाना ।
 कुछ कमान झुके कुछ गोसा-कलह में दोनों दल जब कुछ हानि सहने को तत्पर होते हैं तभी झगड़ा तय होता है ।
 कुछ खोकर ही अवल आती है-विना कुछ हानि उठायें लाभ नहीं होता ।
 कुतार होना-काम विगाड़ना ।
 कुतिया धोरों मिल गई पहरा किसका दे-रक्षक जब चोरों से मिल जाते हैं तब रखवाली नहीं हो सकती ।
 कुत्ता काटना-पागल होना ।
 कुत्ते की मौत भरना-दुर्दशा में पड़कर मृत्यु होना ।
 कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है-पशु को भी स्वच्छता अच्छी लगती है ।
 कुत्ते की दुम बारह वर्ष नली में रखी जाय तब भी टेढ़ी की टेढ़ी-नीच मनुष्य अपनी कुटिलता कभी नहीं छोड़ता ।
 कुत्ते की नौद सोना-अचेत होकर न सोना ।
 कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं डरते-क्षुद्र मनुष्यों के भला-बुरा कहने से सज्जन लोग क्षुब्ध नहीं होते ।
 कुत्ते को घी हजम नहीं होता-क्षुद्र मनुष्य सम्पत्ति पाकर गुप्त नहीं रख सकता ।
 कुप्पा होना-मोटा ताजा हो जाना ।
 कुन्हार अपना ही घड़ा सराहता है-अपनी वनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है ।
 कुलबुला उठना-व्यग्र होना, धवड़ा जाना ।
 कुन्हिया में गड़ फोड़ना-गुप्त रूप से कोई काम करना ।
 कुच बोलना-प्रस्थान करना, चल जाना ।
 कूट कूट कर भरना-अधिक होना ।
 कूड़ पर फुल्ले डालना-कृतघ्न पर उपकार करना ।
 कूपमण्डक बनना-अपने अल्प ज्ञान की श्लाघा करना ।
 केंचुली बदलना-शारीरिक स्वास्थ्य में उन्नति होना ।
 कैंडा बदलना-डंग बदलना ।
 कैंड़े पर आना-अनुकूल होना ।
 कैंड़े पर लाना-डंग पर लाना ।
 कैं हंसा मोती चुने, कैं भूखो मर जाय-प्रतिष्ठित पुरुष को जान से भी अधिक प्रतिष्ठा प्यारी होती है ।
 कोई दम का मेहमान होना-मरणासन्न होना ।
 कोउ नृप होय हमें का हानी-किसी को

लाम हो हमसे क्या मतलब ।
 क्रोध उजड़ना—सन्तान का मरण ।
 क्रोध की आँच—सन्तान के वियोग का दुःख
 क्रोध खुलना—प्रथम सन्तान का जन्म ।
 कोठीवाला रोवे, छप्परवाला सोवे—अमीर
 सर्वदा व्यग्र रहता है तथा गरीब सुख
 की नींद सोता है ।
 कोदो देकर पढ़ना—अच्छी तरह पढ़ना-
 लिखना न जानना ।
 कोयले की दलाली में हाथ काले—संगति का
 असर अवश्य पड़ता है ।
 कोयला होय न ऊजला सौ मन साबुन
 धोय—नीच मनुष्य हजारों उपाय करने
 पर भी अपनी नीचता नहीं छोड़ता ।
 कोर-कसर—वेशी-कमी ।
 कोरा टालना—कुछ भी न देना ।
 कोरा रखना—कुछ न सिखलाना ।
 कोरा रह जाना—कुछ भी न मिलना ।
 कोरा जवाब देना—निराशाजनक उत्तर देना ।
 कोरी-कोरी सुनाना—डॉट डपट करना ।
 कोरी पटिया पर लिखना—कोई नया कार्य
 आरंभ करना ।
 कोसों दूर भागना—अरुचि या घृणा होना ।
 कोसों दूर रहना—कोई मतलब न रखना ।
 कोल्हू का बेल—दिन रात काम करनेवाला
 मनुष्य ।
 कौड़ियों के मोल लेना—बहुत सस्ता खरीदना ।
 कौड़ी काम भी न होना—किसी के काम का
 न होना ।
 कौड़ी के तीन-तीन होना—बड़ा सस्ता होना,
 विपत्ति में पड़ना ।
 कौड़ी-कौड़ी को मुहताज होना—धन की
 कमी होना ।
 कौवा चला हंस की चाल—साधारण मनुष्य
 होकर बड़े आदमियों का अनुकरण करना ।
 कौवे बोलना—उजाड़ होना ।
 क्या पड़ी है—क्या प्रयोजन है ।
 क्या पानी मयने से घी निकलता है—बेकार
 काम करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं
 होता, बड़ा कृपण कुछ दे नहीं सकता ।
 क्या मुँह दिखाना—क्या उत्तर देना ।
 क्रोध पो जाना—क्रोध को दबा लेना ।

ख

खग जाने खग ही की भाषा—जिसकी
 सोहबत में जो रहता है वह उसके विचार
 से परिचित रहता है ।
 खचाखच भरना—बहुत भीड़भाड़ होना ।
 खटका लगा रहना—डर बनी रहना ।
 खट-पट होना—नड़ाई लगना ।

खटाई में पड़ना—अनिश्चित अवस्था में होना ।
 खड़े खड़े बुलाना—थोड़े समयके लिये बुलाना ।
 खप जाना—नष्ट होना ।
 खबर लेना—सजा देना ।
 खयाली घोड़े दौड़ाना—कल्पना करना, धुन
 बाँधना ।
 खयाली पुलाव पकाना—केवल कल्पना
 करना ।
 खरबूजे को देखकर खरबजा रंग पकड़ता
 है—दूसरे का अनुकरण करना स्वाभाविक
 होता है ।
 खरी खोटी सुनाना—साफ-साफ बात
 कहना, मला-बुरा कहना ।
 खरी मजूरी चोखा काम—पूरी मजदूरी देने
 से काम अच्छा होता है ।
 खलबली मचना—उपद्रव होना ।
 खलक की जुबान खुदा का नक्कारा—समाज
 के विचार को ईश्वर की आज्ञा समझना
 चाहिये ।
 खली गुड़ का एक भाव करना—मले-बुरे
 को समान जानना ।
 खाँडे की धार पर चलना—कठिन कार्यकरना ।
 खाइये मनभाता, पहिनिये जंगभाता—
 अपनी रुचि के अनुसार भोजन और दूसरे
 के पसन्द का वस्त्र पहिना चाहिये ।
 खाओ वहाँ तो पानी पियो यहाँ—अति शीघ्र
 काम पूरा करो ।
 खाक उड़ाना—मारे-मारे फिरना ।
 खाक छानना—भटकते फिरना ।
 खाक डालना—छिपा रखना, दबा देना ।
 खाक फाँकना—मिथ्या बोलना ।
 खाक में मिलना—वरवाद हो जाना ।
 खाक में मिलाना—नष्ट करना, वरवाद करना ।
 खाक डाले चाँद नहीं छिपता—यशस्वी की
 निन्दा करने से उसका यश नष्ट नहीं होता ।
 खाकर डकार न लेना—चुपके से दबा लेना ।
 खाने के और दिखाने के दाँत और होते हैं—
 ऊपर से तो शिष्टाचार करना और
 मन में कपट करना ।
 खाने को दौड़ना—अति क्रुद्ध होना ।
 खाने को पीछे, नहाने को पहिले—भोजन
 करने के पहिले स्नान करना चाहिये ।
 खाय तो पछताय, न खाय सो भी पछताय—
 जो पदार्थ दिखाव में सुन्दर हो परन्तु
 भीतर से खराब निकले उसको ग्रहण
 करने से पछतावा होता है ।
 खार खाना—द्वेष करना, कुड़ना ।
 खाल उधेड़ना—कड़ा दंड देना ।
 खाला जी का घर—बड़ा सहज काम ।
 खाल ओड़िके सिंह की तयार सिंह नहिं

होय—बाहरी रूप बदलने से किसी का
 असली गुण नहीं बदलता ।
 खिचा रहना—वैमनस्य रखना ।
 खिचड़ी पकाना—छिपी तरह से कोई षड्-
 यन्त्र करना ।
 खिचड़ी माँग चार थार, दही पापड़ घी
 अचार—दही, पापड़, घी और अचार
 खिचड़ी के साथ खाने में अच्छे लगते हैं ।
 खिल उठना—प्रसन्न होना ।
 खिलखिलाकर हँसना—ठट्ठा मारकर हँसना ।
 खिसक जाना—चुपके से भाग जाना ।
 खिसिया जाना—असन्तुष्ट होना ।
 खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे—लज्जित
 होने पर क्रोध दिखलाना ।
 खिलाये का नाम नहीं हलाये का नाम—
 बच्चों को खिलाना कोई नहीं देखता जब
 वह रोता है तो सब देखता है ।
 खींचा-तानी में पड़ना—झगड़े में फँसना ।
 खुदा-खुदा करके—किसी न किसी प्रकार से,
 बड़ी मुश्किल से ।
 खुदा गंजे को नाखन न दे—अनधिकारी
 को अधिकार मिलना बुरा होता है ।
 खुदाई में ढले फकना—ईश्वर का कृतघ्न होना ।
 खुल (कर) खेलेना—स्वच्छंद, बेफिक्र होना ।
 खुल पड़ना (जाना)—भेद का प्रकट होना ।
 खुले आम—सबके सम्मुख, सबके सामने ।
 खुले दिल—उदार हृदय से ।
 खुशामद से ही आमद है—खुशामद से सब
 काम निकल जाता है ।
 खुशामदी टट्टू—वह जो सर्वदा अमीरों की
 खुशामद किया करता है ।
 खूँटे के बल बछड़ा कूदे—दूसरे के मरोसे
 बल दिखलाना ।
 खून उवलना—(खौलना)—क्रोध तपन्न
 होना, गुस्सा आना ।
 खून का प्यासा—हत्या करने के लिये उद्यत ।
 खून की नदी बहाना—बहुतेरों की हत्याकरना ।
 खून के घूँट पीना—बड़ा कष्ट सहन करना ।
 खून भरी आँखों से देखना—अति क्रुद्ध होना ।
 खून लगाकर शहीदों में दाखिल होना—
 बिना कोई महत्त्व का कार्य किये हुए
 बड़ा बनने की चेष्टा करना ।
 खून सफेद होना—बहुत डर जाना ।
 खून सूखना—बहुत डर जाना ।
 खून से हाय रंगना—हत्या करना ।
 खेत रहना—लड़ाई में मृत्यु होना ।
 खेती खसमखेती—मालिक के स्वयं निरीक्षण
 से ही खेती अच्छी होती है ।
 खेल बिगड़ना—बना बनाया कार्य नष्ट होना ।
 खेल बिगाड़ना—बना बनाया कार्य नष्ट

कर देना ।

खेलना खाना-आनन्द में समय विताना ।
खोकर सीखना-हानि उठाकर तजुर्वा होना ।
खोटा बेटा, खोटा पैसा भी समय पर काम
आ जाता है-निष्कण्ट वस्तु भी किसी
समय उपयोग में आ जाती है ।
खोदा पहाड़, निकली चुहिया-अति परि-
श्रम करने पर कुछ भी लाभ न होना ।
खोद-खोदकर पूछना-तर्क बितर्क करना ।
खोपड़ी खाना-बहुत बकवाद करके
परेशान करना ।
खोपड़ी गंजी करना-सिर पर मार-मारकर
वालों को उड़ा देना
खोपड़ी रंगना-सिर फोड़कर लोह वहाना ।

ग

गंगा गये गंगाराम, जमुना गये जमुनादास-
ऐसा मनुष्य जिसका कोई दृढ़ सिद्धान्त
नहीं होता ।
गंगा नहा लेना-किसी काम से निवृत्त होना ।
गंगाजली उठाना-हाथ में गंगाजल लेकर
कसम खाना ।
गंगालाभ होना-देहान्त होना ।
गँजेड़ी यार किसके, दम लगाई खिसके-
स्वार्थी मनुष्य किसी के मित्र नहीं होते ।
गगन भेदी पताका फहराना-प्रभाव सहित
शासन करना ।
गज भर छाती होना-उत्साहयुक्त होना ।
गट कर जाना-जल्दी से पी जाना ।
गठरी मारना-माल चुरा ले जाना ।
गड़ जाना-लज्जा से झप जाना ।
गड़े मुर्दे उखाड़ना-त्रीती हुई बातों को
कहकर वैमनस्य जागृत करना ।
गड़े में पड़ना-पतित होना, नष्ट होना ।
गत बनाना-दुर्दशा करना ।
गधा खेत खाय, जलाहा मारा जाय-अप-
राध कोई करे और दण्ड किसी दूसरे
को दिया जाय ।
गधा धोने से बछड़ा नहीं होता-मनुष्य की
स्वाभाविक प्रकृति किसी तरह से नहीं
बदली जा सकती ।
गधे चराना-मूर्ख बने रहना ।
गधे को वाप बनाना-मूर्ख व्यक्ति का
आदर करना ।
गधे पर चढ़ाना-त्रेड्ज्जत करना ।
गधों को हलवा खिलाना-नीचों का सत्कार
करना ।
गप्प मारना-बेफायदे की बात करना, झूठ
बोलना ।
गम खाना-शान्ति धारण करना ।

गर्ब का भार गधे पर धरना-जो काम
योग्य व्यक्ति कर सके उसको अयोग्य
को सौंपना ।
गधा गुजरा जानना-तुच्छ समझना ।
गया बख्त फिर हाथ आता नहीं-समय पर
चुकना अच्छा नहीं होता ।
गधे थे रोजा छुड़ाने, नमाज पड़ी गले-
उपकार करने चले थे, मगर स्वयं
दुःख भोगना पड़ा ।
गरम होना-क्रोध करना ।
गरदन उठाना-भिड़ जाना, प्रतिवाद करना ।
गरदन उठाने का भौका न मिलना-कार्य में
अति व्यस्त रहना, अवकाश न मिलना ।
गरदन काटना-कष्ट पहुँचाना, हानि
पहुँचाना ।
गरदन झुकना-विनीत बन जाना ।
गरदन झुकाना-नम्र होना, अधीन होना ।
गरदन नापना-गरदनियाँ देकर हटा देना ।
गरदन पर छुरी फेरना-अत्याचार करना ।
गरदन पर सवार होना-पीछे पड़ जाना,
बहुत तंग करना ।
गरीब की हाथ तुरी होती है-गरीब पर कभी
अत्याचार न करना चाहिये ।
गरीब रोजे रखे तो दिन बड़े हो गये-गरीब
का समय सर्वदा दुख से ही वीतता है ।
गरीब सब कोई कहते हैं, बड़े आदमी
कोई नहीं कहता-गरीबों की वृत्तियों को
सब कोई देखता है, अमीरों की कोई
नहीं देखता ।
गरीबी से झूह छिपाना-शर्मिन्दा होना ।
गर्द भी न पाना-खोजने से न मिलना,
बराबरी में न ठहरना ।
गला काटना-अत्याचार करना, पीड़ा
पहुँचाना ।
गला घाँटना-अत्याचार करना, बड़ा कष्ट
देना ।
गला फँसना-लाचार हो जाना ।
गला फँसना-विपत्ति में डालना ।
गला रेतना-अत्याचार करना ।
गला सूखना-प्यास लगना ।
गली गली धारा फिरना-दुर्दशा होना ।
गले का हार होना-बड़ा प्यारा बनना,
चिपट जाना ।
गले पड़ना-ऊपर आ जाना ।
गले मड़ना-इच्छा के विरुद्ध कोई काम
किसी को सौंपना ।
गले से लगाना-प्यार करना ।
गवाह चुस्त गुहई सुस्त-अर्थ स्पष्ट है ।
गहरा असाध-बहुत धन देनेवाला ।
गहरा हाथ मारना-इच्छा की हुई वस्तु का

अधिक परिमाण में मिलना ।
गहरी चाल चलना-बड़ा छल करना ।
गहरी छानना-आनन्द के समय विताना,
अधिक वार्तालाप होना ।
गाँठ काटना-बहुत मँहगा बेचना, जेब
काटना ।
गाँठ का पूरा-बड़ा अमीर ।
गाँठ खुलना-अज्ञात दूर होना ।
गाँठ पर गाँठ पड़ना-अज्ञात बढ जाना ।
गाँठ में जमा तो खातिर जमा-पास में धन
होने से किसी बात की फिक्र नहीं रहती ।
गाँठ में बाँधना-अच्छी तरह याद रखना ।
गाँठ लेना-अपने पक्ष में कर लेना ।
गागर में सागर भरना-थोड़े में कहना,
संक्षिप्त में वर्णन करना ।
गाजर-मूली समझना-तुच्छ जानना ।
गाड़ी चल पड़ना-कार्य का आरंभ होना ।
गाड़ी रुक जाना-चलता काम बंद होना ।
गाड़ी कमाई-परिश्रम से कमाया हुआ धन ।
गाड़ी छनना-बड़ी मित्रता होना ।
गाल बजाना-बकबक करना ।
गिन गिनकर दिन काटना-बड़े कष्ट में
दिन विताना ।
गिन गिनकर पाँव धरना-धीरे-धीरे चलना
सावधानी से काम करना ।
गिन गिनकर बदला लेना-बड़ी तकलीफ
देना, पूरी तरह से बदला चुकाना ।
गिरगिट की तरह रंग बदलना-बारंबार
अपना मत बदलना, किसी सिद्धान्त
पर स्थिर न रहना ।
गिरह टटोलना-कुछ लेने की इच्छा करना ।
गिरह पड़ जाना-मनमुटाव होना ।
गीत गाना-प्रशंसा करना, तारीफ करना ।
गीदड़ की शामत आवे तो गाँव की ओर
भागो-भाग्य विगड़ जाने पर बुद्धि भी
अष्ट हो जाती है ।
गीदड़ भभकियाँ दिखलाना-वृथा डराना,
झूठ-मूठ त्रास देना ।
गुंजा मानिक एक समान-पंडित और
मूर्ख का भेद न समझना ।
गुट्ट बाँधना-दलबन्दी करना ।
गुड्डा बाँधना-अपमानित करना, बेइज्जत
करना ।
गुड़ खाय गुलगुलों से परहेज-वृथा का आड-
स्वर रचना ।
गुड़-गोबर कर देना-काम को विगाड़ देना ।
गुड़ देने से मरे तो जहर क्यों देना-यदि
शमझाने से काम हो जाये तो दंड क्यों देना ?
गुथ पड़ना-लड़ जाना ।
गुडड़ी का लाल-किसी के रंग-रूप से उसके

गुणों का पता न चलना ।
 गुनाह बेलज्जत-नीच कर्म करने पर भी न मिलना ।
 गुर निकालना-उपाय का पता लगाना ।
 गुरु गुड़ रह गये, चेला चीनी हो गये-चेले का गुरु से भी अधिक विद्वान् होना ।
 गुल खिलना-विचित्र घटना होना ।
 गुल खिलाना-विचित्र घटना उपस्थित करना
 गुलछरें उड़ाना-आनन्द मनाना ।
 गुंगे गुड़ खाना-अपना अनुभव न प्रकट कर सकना ।
 गूलर का फूल लेना-न मिलनेवाली वस्तु की आकांक्षा करना ।
 गूलर का फूल हो जाना-लुप्त हो जाना, बेपत्ते होना ।
 गोकुल से मथुरा न्यारी-परस्पर संबंध न होना
 गोद में बैठकर आँखों में अँगुली-कृतघ्नता प्रकट करना ।
 गोद में लड़का शहर भर ढिंढोरा-पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना ।
 गौबर गिरा तो कुछ लेकर ही उठेगा-धन उधार लिया तो कुछ सूद जरूर ही देना पड़ेगा ।
 गोली मारना-त्याग देना, छोड़ देना ।
 गोरखबंधे में पड़ना-झंझट में पड़ना ।
 गौं निकालना-स्वार्थ सिद्ध होना ।

घ

घड़ों पानी पड़ना-अत्यन्त लज्जित होना ।
 घनचक्कर में पड़ना-आफत में पड़ जाना ।
 घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता-अतिथि का अपमान न करना चाहिये ।
 घर उजड़ना-संपूर्ण संपत्ति का नाश होना ।
 घर करना-पति बनाना ।
 घर काटनेदौड़ना-मकान में दिल न लगना ।
 घर का दिया दुझ जाना-एकमात्र पुत्र की मृत्यु होना ।
 घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध-विद्वान् मनुष्य की अपने देश में उतनी प्रतिष्ठा नहीं होती जितनी अन्य देश में होती है ।
 घर का न घाट का-कहीं का भी न होना ।
 घर का भेदिया लंका ढाहे-आपस के बैर का बुरा परिणाम होता है ।
 घर का रास्ता लेना-माग जाना ।
 घर की आधी भली बाहर की सारी कुछ नहीं-घर में काम करके थोड़ा ही मिले तो भी बाहर के व्यवसाय ने अच्छा है ।
 घर की पांडू फिरकिरी लगे, चोरी का गुड़ भोजी-धुरी रीति से प्राप्त की हुई वस्तु

घर की वस्तु से अधिक अच्छी लगती है ।
 घर की खेती-सहज में मिलनेवाला पदार्थ ।
 घर की मुर्गी साग बराबर-घर की वस्तु का विशेष आदर नहीं होता ।
 घर के घर रहना-लाम हानि बराबर होना ।
 घर के पीरों को तेल का मलीदा-घर के लोगों के साथ तो बुरा व्यवहार किया जाय और बाहर की बड़ी प्रतिष्ठा ।
 घर खीर तो बाहर खीर-घर में धन है तो बाहर भी प्रतिष्ठा होगी ।
 घर घर पूजा होना-सर्वत्र प्रतिष्ठा होना ।
 घर घर यही लेखा-सभी परिवार में समान स्थिति रहती है ।
 घर तक पहुँचना-पूर्ण करना ।
 घर फूंक तमाशा-संपत्ति का नाश करके आनन्द भ्रमना ।
 घर बनना-आर्थिक स्थिति सुधरना ।
 घर बसना-विवाह होना, घर में स्त्री का आगमन ।
 घर बैठे-विना बाहर गये ।
 घर बैठे गंगा आना-अनायास धन मिलना ।
 घर में चूहे कूदना-अति दरिद्र होना ।
 घर में डोल लेना-पत्नी बनाना ।
 घर में दिया तो मसजिद में दिया-बाहर की फिक्र करने के पहिले अपने घर की स्थिति सम्मालो ।
 घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने-झूठा आडंबर रचना ।
 घर सिर पर उठाना-बड़ा कोलाहल मचाना ।
 घर से बाहर न निकलना-संसार का अनुभव न प्राप्त करना ।
 घाट घाट का पानी पीना-सब तरह के अनुभव प्राप्त करना ।
 घाट में रहना-अर्थ सिद्ध करने के लिये ताक में रहना ।
 घाट लगाना-नुकसान पहुँचाने के लिये मौका ढूँढ़ना ।
 घाव पर निमक छिड़कना-दुःखी को और भी कष्ट देना ।
 घाव हरा होना-बीते हुए कष्टका स्मरणहोना
 घास काटना (खोदना)-व्यर्थ के काम में समय गँवाना ।
 घास खा जाना-पागल होना ।
 घिघी चंघना-बहुत डर के कारण मुख से शब्द न निकलना ।
 धी कहाँ गया सिचड़ी में-अपनी वस्तु का अपने प्रयोग में आना ।
 धी के दीपक जलाना-हर्ष और आनन्द मनाना
 धी भी खाओ और पगड़ी भी रखो-मनुष्य को इतना धन तर्क करना चाहिये कि

बाहर मान मर्यादा बनी रहे ।
 घुट घुटकर मरना-कष्ट भोगकर शरीर छूटना
 घुटने टेकना-अधीन होना, विनीत भाव दिखलाना, आत्मसमर्पण करना ।
 धुन लगना-किसी भीतरी रोग से अति दुर्बल हो जाना ।
 धुमाकर नाक पकड़ना-अपने अभिप्राय को लपेट की बातों में प्रकट करना ।
 धुमा फिराकर बात करना-साफ-साफ बात न कहना ।
 धुल-धुलकर बात करना-धनिष्ठता में प्रेमपूर्वक बातें करना ।
 धुल जाना-बड़ा दुर्बल होना ।
 धोड़ा घास से यारी करे तो क्या खाय-व्यापार में मुनाफा न लेने से काम नहीं चलता ।
 धोड़ा घुड़साल में ही विकता है-जहाँ की वस्तु वही विकती है ।
 धोड़े बेचकर सोना-निश्चिन्त होकर सोना ।
 धोलकर पी जाना-किसी प्रकार की चिन्ता न करना ।

च

चंग पर चढ़ाना-उत्तेजित करना ।
 चंगुल में फँसना-परवश हो जाना ।
 चंडखाने की गप्प-झूठी बात ।
 चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरा न काठ-उत्तम वस्तु थोड़ी मात्रा में भी भली होती है, बुरी वस्तु अधिक भी भली नहीं होती ।
 चंपत हो जाना-भाग जाना ।
 चक्कर में डालना-झगड़े में फँसाना ।
 चक्कर में पड़ना-बोखे में आ जाना ।
 चक्की पीसना-बड़ा परिश्रम करना ।
 चक्मा देना-बोखे में डालना ।
 चचा वन जाना-अधिक चालाक होना ।
 चट कर जाना-जल्दी से खो जाना ।
 चटनी हो जाना-खूब पिस जाना ।
 चट्टे-चट्टे लड़ाना-इधर-उधर की बातें कहकर झगड़ा खड़ा करना ।
 चड़ा जाना-पी जाना ।
 चवा-चवाकर बातें करना-साफ टोल्कर न कहना ।
 चमड़ी जाय पर चमड़ी न जाय-बड़ा कृपण होना ।
 चरका देना-धोखा देना ।
 चरण छूना-विनती करना, प्रणाम करना ।
 चरवी बड़ना-मोटा-ताजा होना ।
 चलता करना-रवाना करना ।
 चल बसना-मर जाना ।
 चलती गाड़ी में ओट लगाना-काम में

विघ्न डालना ।

चहल-पहल मचना-रौतक होना ।

चाँद पर थकना-किसी की निन्दा करके स्वयं दूषित होना ।

चाँदी का जूता मारना-घूस देना ।

चाँदी होना-अधिक लाभ होना ।

चाकरी में नाकरी क्या-नौकरी करने पर कुछ इनकार नहीं हो सकता ।

चादर उतार डालना-वेशर्म होना ।

चादर के बाहर पर फलाना-आय से अधिक व्यय करना ।

चादर तानकर सोना-निश्चिन्त हो जाना ।

चादर देखकर पाँव फँलाना-शक्ति के अनुसार काम करना ।

चार आँसू गिराना-शोक करना ।

चार चाँद बढ़ाना-इज्जत बढ़ाना ।

चार दिन-थोड़े दिन तक ।

चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात-सर्वदा सुख के दिन नहीं रहते ।

चार बातें सुनाना-खरी खोटी सुनाना ।

चार पैसे हाथ में होना-आर्थिक स्थिति अच्छी होना ।

चारो खाने चित्त आना-बुरी तरह से हारना

चाल चलना-धूर्तता करना, दगावाजी करना, कपट व्यवहार करना ।

चारपाई से लग जाना-रोग से अति दुर्बल हो जाना ।

चाल पड़ना-रिवाज होना, फर्क आना ।

चाल में आना-घोखे में पड़ना ।

चिकना घड़ा-जिस पर किसी शिक्षा का प्रभाव न पड़े ।

चिकनी-चुपड़ी बातें करना-मीठा बोलकर बोखा देना ।

चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता-बेहया पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता ।

चिड़िया फँसाना-किसी मालदार असामी को बोखा देकर अपने वश में करना ।

चित्त करना-हानि पहुँचाना, हराना ।

चित्त पर चढ़ना-मन को भला लगना ।

चितापर पाँव रखना-मरणकाल समीप आना

चित्र बन जाना-मूर्ति की तरह चुपचाप बैठ जाना ।

चिराग गुल होना-मृत्यु होना ।

चिराग ठंडा होना-पुरुषार्थ का अन्त होना ।

चिल्लाना ।

चों बोलना-हार मानना ।

चौंटी चाहे सागर थाह-सामान्य मनुष्य का बड़े काम करने में उद्योग ।

चुटकियों में-अति शीघ्र, तुरत ।

चुटकियों में उड़ाना-दिल्लीगो में टालना ।

चुटकी लेना-मर्मवेधी बातें कहना ।

चुल्लू भर पानी भी न पूछना-किसी काम में न आना ।

चुल्लू भर पानी में डूब मरना-लज्जावश मुँह न दिखलाना ।

चुल्लू में उल्लू, लोटे में गड़गप-शराब की कम या अधिक मात्राओं का प्रभाव जो पीनेवाले पर प्रत्याशित होता है ।

चूँचकार करना-आपत्ति करना, वाद-विवाद करना ।

चूड़ियाँ पहनना-कायर बनना ।

चूड़ियाँ फूटना-विधवा होना ।

चूल्हा न जलना-भोजन न मिलना ।

चूल्हे को फूंकना और दाढ़ी रखना-दो असंगत कार्य करना ।

चूल्हे की हैं न चक्की की-ऐसी स्त्री जो कोई काम न कर सकती हो ।

चूल्हे में पड़ना-नष्ट होना ।

चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है-किसी का जाति स्वभाव नहीं छूटता ।

चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मड़े जाते-क्षुद्र मनुष्य से बड़ा काम नहीं हो सकता ।

चेहरा उतरना-उदास होना ।

चेहरे पर हवाईयाँ उतरना-भयत्रस्त होना ।

चैन की छनना, चैन की बंसी बजाना-आनन्द से जीवन विताना ।

चोचले दिखलाना-इतराना ।

चोट उभड़ना-दुःख फिर से आ जाना

चोट करना-आक्रमण करना, धावा करना ।

चोट पर चोट लगना-दुःख में दुःख होना ।

चोटी हाथ में आना-वश में होना ।

चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली-रखवाला ही यदि चोर हो तो रखवाली कैसे हो सकती है ।

चोर की दाढ़ी में तिनका-चोर को सदा सन्देह बना रहता है कि वह कहीं पकड़ा न जावे ।

चोर के पैर नहीं होते-चोर का मन सदा डरा करता है ।

चोर-चोर मौसेरे भाई-एक ही स्वभाव और व्यवसायवाले मनुष्य परस्पर मेल रखते हैं ।

चोरी का माल मोरी में-बुरी तरह से कमाया हुआ धन बुरे कार्यों में खर्च होता है ।

चौकना होना-सावधान होना ।

चौकस रहना-सचेत रहना ।

चौका लगाना-सत्यानाश करना ।

चौखट चूमना-आधीनता स्वीकार करना ।

चौथ का चाँद-मादों सुदी चौथ का चन्द्रमा जिसको देखने से कलंक लगता है ।

चौपट करना-नष्ट करना, बरबाद करना ।

छ

छँटा हुआ-प्रसिद्ध, मशहूर ।

छक्के छुड़ाना-परास्त करना ।

छक्के छूटना-साहस न होना ।

छक्के-पंज उड़ाना-आनन्द में मचाना ।

छल्लूंदर के सिर में चमेली का तेल-अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पदार्थ मिलना ।

छटपटा उठना-व्यग्र होना, घबड़ा जाना ।

छटाँक चून चौबारे रसोई-झूठा आडंबर ।

छठी का दूध याद आना-कठिन कष्ट पड़ना ।

छत्रछाया में रहना-आधीन रहना ।

छप्पन टके खर्च होना-ज्यादा खर्च होना ।

छप्पर पर रख देना-त्याग देना, छोड़ देना ।

छप्पर फाड़कर मिलना-अनायास प्राप्त होना

छाती का पत्थर टलना-दुःख दूर होना ।

छाती के किवाड़ खोलना-उदारता से खर्च करना ।

छाती खोलकर चलना-निर्भय होकर चलना ।

छाती जलना-दुःख देना ।

छाती जुड़ाना-शान्ति मिलना ।

छाती ठठी करना-चित्त सन्तुष्ट करना ।

छाती ठीकना-दिल कड़ा करना ।

छाती तले रखना-प्रेमपूर्वक पास रखना ।

छाती पर कौदो करना-सन्मुख अनुचित कार्य करना, कष्ट पहुँचाना ।

छाती पर पत्थर रखना-कष्ट सहना ।

छाती पर बाल न होना-बीर होना ।

छातीपर साँपलेटना-ईर्ष्याकरना, डाहकरना

छाती पीटना-शोक मनाना ।

छाती से लगाना-प्यार करना ।

छान डालना-अन्वेषण करना, खोज करना

छापा मारना-बूट लेना ।

छाया तक न पड़ना-कुछ प्रभाव न पड़ना ।

छिद्रान्वेषण करना-एव निकालना ।

छिपा रहना-निकलना-योग्य सिद्ध होना,

दुष्ट सिद्ध होना ।

छोकते ही नाक कटना-अपराध करते ही

दण्ड मिलना ।

छोटे डालना-मर्मवेधी बातों का संकेत करना

छोछालेदार करना-दुर्दशा करना ।

छुट्टी पाना-निस्तार होना, मुक्त होना ।

छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी

पर गिरे बात एक ही है—हानि दोनों ही तरह से होती है।
छुरी तले दम लेना—कष्ट से जिन्दगी बिताना।
छुरी तेज करना—कष्ट देना, सताना।
छ-मंतर ही जाना—भाग जाना।
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह—बड़े में छोटे से अधिक दुर्गुण जब देख पड़ता है तब कहा जाता है।
छोटे मुँह बड़ी बात—बढ़वढ़कर बातें करना।

ज

जंगल में मंगल होना—निर्जन स्थान में आनन्द का उत्सव होना।
जग में देखने का ही नाता—संसार में जीते जी का ही नाता रहता है।
जगह कर जाना—प्रभाव डालना।
जगह करना—मकान बनाना, स्थान देना।
जड़ उखाड़ना—नाश करना।
जड़ छोड़ना—जमकर बैठना।
जनमधुद्री में दिया जाना—जन्म से ही अभ्यास डालना।
जने-जने की लकड़ी एक जने का बोझ—समष्टि में बड़ा बल होता है।
जब अपनी उतार ली तब दूसरेकी उतारने में क्या लगता है—जब अपनी इज्जत गई तब दूसरे की इज्जत बरवाद करने में क्या है।
जब तक जीना तब तक सीना—जिन्दगी भर संसारी झंझटें बनी रहती हैं।
जबरबस्त का ठेगा सिर पर—निर्वल सदा बलवान् के आधीन रहता है।
जबरा मारे रोने न दे—निर्वल को बलवान् सदा कष्ट देता है।
जवाँ शीरी मुल्क गीरी—मीठा बोलकर मनुष्य संसार में सबको प्रसन्न कर सकता है।
जवान एक होना—अपने कहे पर दृढ़ रहना।
जवान खींचना—बड़ा दण्ड देना।
जवान देना—प्रतिज्ञा करना, वचन देना।
जवान पर चढ़ा रहना—अच्छी तरह से याद रहना।
जवान पर लाना—कह बैठना।
जवान बदलना—कहकर मुकर जाना।
जवान में लगाम न होना—अशिष्ट वचन बोलना।
जवान हिलना—बाँवना।
जवान ही हाथी पर चढ़ावे और जवान ही सिर फटावे—सला-बुरा बोलने पर ही मनुष्य की उन्नति और अवन्नति निर्भर होती है।
जवानी जमा-तर्चं करना—दिखावटी सहा-

नुभूति दिखलाना।
जमाने की लहर के साथ चलना—स्थिति के अनुसार काम करता।
जमीन आसमान एक करना—बड़ी खोज करना।
जमीन पर पाँव न रखना—बड़ा गर्व करना।
जमीन में गड़ जाना—बड़ा लज्जित होना।
जल की मछली जल में ही भली—जहाँ की वस्तु वहीं अच्छी लगती है।
जल में रहकर मगर से बँर—जिसके आधीन रहे उसीसे शत्रुता करना।
जल-जलकर भस्म होना—क्रोधवश दुःख पाना
जली भुनी कहना—कठोर शब्दों का प्रयोग करना।
जले पर नमक छिड़कना—दुःखी को और दुःख देना।
जहर का घूंट पीना—क्रोध के आवेग को रोकना।
जहर दिखाई देना—शृणा होना।
जहर लगना—बुरा मालूम होना।
जहाँ का तहाँ खपा देना—जानसे मार डालना।
जहाँ की मिट्टी वहीं ले जाती है—जहाँ मरना होता है वहीं मनुष्य चला जाता है।
जहाँ गुड़ होगा, वहीं चीटियाँ होंगी—लोग वहीं इकट्ठा होते हैं जहाँ उनको कुछ मिलने की आशा होती है।
जहाँ गुल है वहीं काँटा भी है—गुण के साथ कमी-कमी दोष भी देख पड़ते हैं।
जहाँ चार बासन होंगे वहीं खड़केंगे—जहाँ अनेक मनुष्य होते हैं वहाँ पर झगड़ा होता ही है।
जहाँ जायँ वाले मियाँ तहाँ जायँ पूँछ—अमीरों के साथ सर्वदा उनके पिछलग्गू बने रहते हैं।
जहाँ मुर्गा नहीं होता वहाँ क्या सबेरा नहीं होता—किसी के बिना संसार का कोई काम नहीं रुकता।
जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि—कवि अपनी कल्पना से सर्वत्र पहुँच जाता है।
जस दूल्हा तस बनी बराता—जैरे को बैसा साथी मिलता है।
जा धमकना—अकस्मात् पहुँच जाना।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी—जिसकी जैसी भावना रहती है उसको देवता की वैसी ही मूर्ति देव पड़ती है।
जाके पाँव न फटी वेवाई, तो क्या जाने पीर पराई—जिसने स्वयं कष्ट का अनुभव नहीं किया है वह पराये की पीड़ा को नया जाने।

जागते को जगाना—समझदार को शिक्षा देना।
जाडू डालना—अपने मतलब में फँसाना।
जान आना—शक्ति आना।
जान का जंजाल हो जाना—अरुचिकर होना।
जान का गाहक बन जाना—प्राण लेने के लिये उद्यत होना।
जान के लाले पड़ना—जीवन की चिन्ता होना।
जान चुराना—काम करने से जो चुराना।
जान खाना—बहुत परेशान करना।
जान खोना—अधिक कष्ट सहना।
जान छुटना—आपत्ति से छुटकारा पाना।
जान छुड़ाना—आपत्ति से बचना।
जान डालना—उत्साहित करना, जोरदार बनाना।
जान पर खेलना—अपने को संकट में डालना।
जान पर बनना—जान जान का डर होना।
जान-बूझकर मक्खी निगलना—अपने हार्थों से अपना अनिष्ट बुलाना।
जान भारी होना—जिन्दगी दुःखमय होना।
जान मारकर काम करना—अपने मस्तक पराक्रम करना।
जान में जान आना—सन्तोष मिलना।
जान सूखना—मयभीत होना।
जान से हाथ धोना—मृत्यु प्राप्त करना।
जानवरों में कौवा मनुष्यों में नीवाँ—ये बड़े चतुर होते हैं।
जान से जाना—मरना।
जामे से बाहर होना—कुपित बड़ा होना।
जाल फलाना—पड़यन्त्र रचना।
जाल डालना—बोखा देना।
जाल में फँसना—बोखे में धा जाना।
जिस हाँडी में खाना उसी में छेद करना—उपकार के बदले अपकार करना।
जिसली छाया में बैठना, उसी को जड़ काटना—जो अपना हित करे उसका अपकार करना।
जिसकी बँदरियाँ वही नचावे—जिसका काम वही कर सकता है।
जितने मुँह उतनी बात—भिन्न-भिन्न मनुष्यों के पृथक् विचार होते हैं।
जित्त डाल पर बँडे उसीको काटे—जो आश्रय दे उसीसे अपकार करना।
जिसके हाथ लोई, उसका सब कोई—यनी मनुष्य की सब लोग गुजामद करने हैं।
जिह्वाप्र होना—अच्छी तरह से याद होना।
जी उचट जाना—मन न लगना।
जी काँपना—डर लगना।
जी का बीज हलका होना—चिन्ता से छुटना।
जी छोड़ना—हिम्मत हारना।
जी चुराना—गुप्तनी करना।

जी छूट जाना—हताश होना ।
 जी छोटा करना—उदास होना ।
 जी जलाना—डुःखी करना ।
 जी टंगा रहना—खटका बना रहना ।
 जी दूट जाना—उत्साहहीन होना ।
 जी दहल जाना—व्यग्र होना, धवड़ाना ।
 जी न भरना—तृप्त न होना ।
 जी पक जाना—तंग आ जाना ।
 जी में जी आना—वैय्ययुक्त होना ।
 जी से उतर जाना—अच्छा न लगना ।
 जी हुजूर बनना—अफसर बनना ।
 जीभ चलते रहना—वक्काद करते रहना ।
 जीभ जली, पर स्वाद न आया—अच्छा काम किया पर फल उलटा मिला ।
 जीभ पकड़ना—बोलने से रोकना ।
 जीभ लपलपाना—भोजन करने की लालसा होना ।
 जीभ संभालकर बोलना—शिष्टता से वार्तालाप करना ।
 जीवन की घड़ियाँ गिनना—मृत्यु समीप आना जुए को कंसे से उतारना—स्वतंत्र हो जाता ।
 जुल देना—धोखा देना, उभाड़ना ।
 जु की डर से गुड़ड़ी नहीं जाती—थोड़े से कष्ट के लिये काम नहीं छोड़ा जाता ।
 जुड़ी आना—कष्ट जान पड़ना ।
 जुता चाटना—चापलूसी करना ।
 जुता लगाना—लज्जित होना ।
 जुता लगाना—अपमान करना ।
 जुतियाँ चटकाते फिरना—बुरा काम करने में व्यग्र रहना ।
 जुते को नोकपर मारना—अति तुच्छ समझना ।
 जुते से बात करना—अपमानित करना ।
 जुते से जाना—खर्च होना ।
 जुता वाम वैसे काम—जैसी मजदूरी वैसे काम जुता देश वैसे भेष बनाना—स्थिति के अनुसार चलना ।
 जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ—एक समान होना जोड़तोड़ करना—उपाय निकालना ।
 जोड़ा न होना—अद्वितीय होना ।
 जोर डालना—श्राव डालना ।
 जोहर खुलना—परीक्षा होना ।
 जोहर दिखलाना—गुण प्रकट करना ।
 ज्यों-ज्यों भीजे काभरी, त्यों त्यों भारी होय—कर्ज अदा न करने पर वह बढ़ता ही जाता है ।

झ

झंडा गाड़ना—अधिकार स्थापित करना ।
 झर मारना—व्यर्थ की वक्काद करना, विवग हाँ जाना ।

झगड़ा मोल लेना—जान बूझकर कलह करना ।
 झटक जाना—शरीर दुबल होना ।
 झटक लेना—ठा लेना, अपहरण करना ।
 झड़ी लगा देना—अधिक संख्या या परिमाण में उपस्थित करना ।
 झपट लेना—छीन लेना ।
 झाँसा देना—धोखे में डालना ।
 झाँसे में आना—धोखे में पड़ना ।
 झाड़ू पड़ना—डाटा जाना ।
 झाड़ू फेरना—नष्ट कर देना ।
 झाड़ू मारना—तिरस्कार करना ।
 झूठ सच कहना—निन्दा करना ।
 झूठे का मुँह काला, सच्चे का बोलबाला—सच्चे की विजय होती है, झूठार जाता है ।
 झूठे के पाँव नहीं होते—झूठे मनुष्य को साहस नहीं होता ।
 झोपड़ी डालना—कुछ देर तक ठहरना ।
 झोपड़ी में रहे, महलों का ह्वाव देखे—वड़ी-वड़ी आकांक्षा करना ।

ट

टकटकी बंधना—पलक न क्षिपना ।
 टकराते फिरना—इधर-उधर खोजते फिरना, भटकना, दुःख उठाते रहना ।
 टकसाल ही जाना—प्रधान स्थान होना ।
 टकसाली बात करना—प्रामाणिक बात कहना ।
 टका सा जवाब देना—स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करना ।
 टक्कर खाना—नुकसान उठाना ।
 टक्कर का होना—समान होना ।
 टक्कर लगना—नुकसान पहुँचाना ।
 टका पास न होना—पास में धन न होना ।
 टका सा मुँह लेकर रह जाना—शर्मिन्दा होना ।
 टके का सब खेल है—धन से ही संसार में सब काम होता है ।
 टट्टी की आड़ में शिकार करना—धूर्तता से छिपकर कार्य साधना, छिपकर पाप करना ।
 टपक पड़ना—अकस्मात् आ पहुँचना ।
 टरका देना—टालना, विना कुछ दिये वापस करना ।
 टर टर करना—वेफायदा बक-बक करना ।
 टस से मस न होना—विनती और शुश्रूषा का प्रभाव न पड़ना ।
 टाँक लेना—नोट कर लेना, लिख लेना ।
 टाँका देना—सिलना ।
 टाँके खोलना—गुप्त बातों को प्रकट करना ।
 टाँग अड़ाना—विघ्न डालना, हस्तक्षेप करना ।
 टाँग तले से निकल जाना—पराजय स्वीकार करना ।
 टाँग तोड़ना—वेकार घूमते फिरना ।

टाँग पसारकर सोना—चैन से कालक्षेप करना ।
 टाँगे रह जाना—चलते-चलते शिथिल हो जाना ।
 टाँघे टाँघे करना—व्यर्थ बक बक करना ।
 टाँघे-टाँघे फिस हो जाना—उद्योग करने पर असफल होना ।
 टाट उलटना—दीवालिया बन जाना ।
 टापते रह जाना—कुछ हासिल न होना ।
 टालमटोल करना—वहानेवाजी करना ।
 टिप्पस लगाना—अपना मतलब साधने के लिये ढंग रचना ।
 टीका टिप्पणी करना—किसी विषय की समालोचना करना ।
 टीका भेजना—कन्या पक्ष का वर पक्ष के घर पर विवाह स्थिर होने के निमित्त फल, मिठाई, वस्त्र आदि भेजना ।
 टीपटाप दिखलाना—गौरव दिखलाना ।
 टीस होना—शरीर में कही पर पीड़ा होना ।
 टुकड़गद्दाई—वह जो भोजन मिलने की आशा से अड़ा रहता है ।
 टुकड़ा तोड़ना—किसी के आश्रित होकर रहना ।

टुकड़ा भाँगना—मिक्षा माँगना ।
 टुकड़े लगना—खाने-पीने के लिये किसी के आश्रित होना ।
 टुटपुंजिया—अल्प धनवाला मनुष्य ।
 टूट पड़ना—आक्रमण करना, कमी होना ।
 टूटी बाँह गले में पड़ना—किसी का बोझ अपने सिर पर पड़ना ।
 टेक रख लेना—मान-मर्यादा स्थापित करना ।
 टेढ़ा होना—अकड़ दिखलाना ।
 टेढ़ी अँगुली से ही घी निकलता है—निरा सीधा बने रहने से काम नहीं चलता ।
 टेढ़ी खीर—कठिनता से होनेवाला कार्य ।
 टेढ़ी चाल चलना—कपट-व्यवहार करना ।
 टेढ़ी टोपी लगाना—शान दिखलाना ।
 टेढ़ी नजर से देखना—बुरी निगाह से देखना ।
 टोपी उछालना—आनन्द का प्रदर्शन करना ।
 टोपी बदलना—किसी मनुष्य को अपना मित्र बना लेना ।

ठ

ठंडक लगना—सरदी लगना ।
 ठंडा पड़ जाना—क्रोध चला जाना, उत्साह-हीन होना, शान्त होना ।
 ठंडा लोहा गरम लोहे को काट देता है—शान्त रहने से क्रोधी का कुछ बस नहीं चलता, वह अन्त में हार जाता है ।
 ठंडा हो जाना—मृत्यु को प्राप्त होना ।
 ठंडी साँत लेना—सौच-विचार में उदास

हो रहना ।

ठकुरसुहाती कहना—शुश्रूषा करना ।
ठठरी होना—अति दुर्बल हो जाना ।
ठठरे ठठरे बदलौवल—समान व्यवसाय-
वालों का परस्पर संबंध, बराबरी ।
ठट बदलना—आडंबर करना ।
ठान लेना—निश्चय कर लेना ।
ठाला बनिया क्या रहे, इस कोठी का धान
उस कोठी में धरे—बेकार आदमी फजूल
का काम किया करता है ।
ठिकाना करना—प्रबंध करना, विवाह
करना ।
ठिकानेकी बात कहना—उचित वार्ता कहना ।
ठिकाने न रहना—स्थायी न रहना ।
ठिकाने लगाना—काम में आना ।
ठिकाने लगाना—अन्त कर देना ।
ठीक कर देना—सजा देना ।
ठीं-ठीं करना—हँसना ।
ठींकना—बजाना—जांच करना, परीक्षा करना ।
ठीकर खाकर सँभलना—हानि हो जाने
पर सचेत हो जाना ।
ठीकर खाते फिरना—बेकार भटकते फिरना ।
ठीकर पर ठीकर खाना—एक कष्ट के
बाद दूसरे का आना ।
ठीकर लगना—हानि उठाना ।

ड

डंक मारना—तकलीफ देना ।
डंका बजना—शोहरत होना, विस्तार होना ।
डंके की चोट कहना—स्पष्ट शब्दों में कहना ।
डंड पेलना—खा-पीकर मस्त रहना ।
डंडी मारना—कम तौलना ।
डकार तक न लेना—अच्छी तरह से हजम
कर जाना, चुप रह जाना ।
डकारना—किसी की वस्तु अपहरण करना ।
डट जाना—स्थिर होना ।
डाइन भी अपने बच्चे को नहीं खाती—
सभी स्त्रियाँ अपने बच्चे का लाड़-प्यार
करती हैं ।
डाइस्कर भोजन करना—खूब पेट भरकर
खाना ।
डावाँडोल होना—स्थिर न रहना ।
डाहँ मारना—चिल्लाते हुए रोना ।
डाँग मारना—शेखी करना ।
डगडुगी पीटना—ढिँढोरा पीटना, प्रसिद्ध
करना ।
डूबे रहना—लीन होना ।
डूबते की तिनके का सहारा—पूरी निराशा
होने पर थोड़ी-सी आशा होना ।
डूढ़ ईंट की मसजिद अलग बनाना—

न्यारे मत का होना, अपना मत सबसे
निराला रखना ।
डूढ़ चावल/की खिचड़ी अलग पकाना—
सबसे निराले मत का होना ।
डोरा डंडा कूच करना—प्रस्थान करना ।
डोरी डीली करना—शासन की कड़ाई कम
करना ।
डोरे पर लगाना—सीधी राह पर लगाना ।

ढ

ढपौर संख—वेवकूफ, वेधवल ।
ढव निकालना—उपाय ढूँढना ।
ढव पर चढ़ना—वश में होना ।
ढव पर लाना—उचित मार्ग पर लाना ।
ढरें पर लगाना—अनुकूल बनाना ।
ढरें से बातें करना—बड़े ढंग से बोलना ।
ढाई दिन की वादशाह तयाना—थोड़े दिनों
के लिए अधिकारी बनना ।
ढाक के वही तीन पात—सर्वदा सामान्य
स्थिति में रहनेवाला ।
ढील-डाल करना—देर करना ।
ढूँढकर लड़ाई खोल लेना—जान-बूझ-
कर झगड़ा खड़ा करना ।
ढेर कर देना—मार डालना ।
ढेर लगा देना—अधिक संख्या में इकट्ठा
कर देना ।

ढ

ढकधीर आज्ञाना—भाग्य की परीक्षा
करना ।
ढकधीर चमकना—भाग्य में उन्नति होना ।
ढकधीर ठोंकना—भाग्य का दोष देना ।
ढकधीर फूट जाना—किस्मत बिगड़ जाना ।
ढकधीर घनना—किस्मत अच्छी होना ।
ढकधीर लो जाना—बुरे समय का आना ।
ढकाजे का हुक्का भी नहीं धिया जाता—
उबार ली हुई वस्तु बुरी होती है ।
ढस्ता उलटना—भाग्य का विपरीत होना ।
ढन कर चलना—गर्व से चलना ।
ढन जाना—परस्पर वैगनमत्र उपदिष्ट होना ।
ढपस्या निष्फल होना—मेहनत नैकान होना ।
ढवेले की बला दस्तर के सिर पर—जिरी
का अपराध दूसरे के सिर पर टोंकना ।
ढाल ठोंकना—बढ़ने मिड़ने के लिये
तैयार होना ।
ढालियाँ बजाना—डुगिया करना ।
ढालू से जीभ न लगाना—बगवत-बनने
रहना ।
ढाव खाना—क्रुद्ध होना ।
ढावका भी न रहना—दुःख भी नैव न बन

जाना ।

ढिनके की ओट में पहाड़—संसार में सब
कुछ देखते हुए भी मनुष्य अन्धा बना
रहता है ।
ढिल धरने की जगह न होना—बड़ी मीड़-
भाड़ होना ।
ढिलांजलि देना—सब संबंध छोड़ देना ।
ढीन-ढेरह करना—इधर उधर करना ।
ढीनों लोक दिखाई पड़ना—मयंकर स्थिति
होना ।
ढीर बन जाना—दौड़कर भाग जाना ।
ढीसमारखाँ बन जाना—मिथ्या अभि-
मान दिखलाना ।
ढुल जाना—तत्पर होना ।
ढू डार-डार, मैं पात पात—चालाक व्यक्ति
से बराबरी की चालाकी करना ।
ढूजी बोलना—प्रसिद्ध होना, विख्यात होना ।
ढू-ढू, सँ-सँ करना—गाली गुपाड़ा मचाना ।
ढूफान खड़ा करना—उपद्रव मचाना ।
ढूल जल चुकना—शक्ति पूरी हो जाना ।
ढेवर बदल जाना—बेमुरीबत होना ।
ढेवर बिगड़ना—क्रुद्ध होना ।
ढोता चश्मी करना—बेमुरीबती दिखलाना ।
ढोते की तरह आँखें फेरना—बेमुरीबत
बन जाना ।
ढोले की तरह पड़ना—विना अर्थ समझे
पाठ याद करना ।
ढ्योरियों पर बल पड़ना—क्रुद्ध होना ।
ढ्योरी चढ़ाना—क्रोध करना ।
ढ्याहिं जाहिं करना—सहायता के लिये
पुकार करना ।
ढिशंशु बन जाना—कहीं का भी न रह जाना ।

झ

झरझरी लगना—कांपने लगना ।
झर्रा जाना—डर जाना ।
झाली का दैगन—किसी ओर न रहनेवाला ।
झाह मिलना—भेद का पता लगाना ।
झाह लगाना—अभ्येपण करना ।
झुड़ी झुड़ी कलना—तिरस्कार करना ।
झुंकार चलना—अपनी प्रतिभा से डिग
जाना ।
झूठ लगाना—छाँड़ देना—नीचा दिखलाना ।
झूठे दरतन—धुंधलाना ।
झूली का घूर खोलना—अंधाधुंध गर्व
करना ।
झोड़ा होना—उपाम होना ।

ड

डंग रह जाना—घबड़ा जाना ।

दंड कमंडल उठाना—अपनी सामग्री उठाकर रवाना हो जाना ।
 दक्षिण भुजा उठाना—सहायक बनना ।
 दबक जाना—ठिठक जाना, छिप जाना ।
 दबाव डालना—लाचार करना ।
 दम उलटना—जी धबड़ाना, अन्तिम श्वास लेना ।
 दम खाना (लेना)—मुस्ताना ।
 दम खींचना—साँस रोकना ।
 दम घोट घोटकर मारना—बड़ी दुर्दशा करके हत्या करना ।
 दम घोटाना—गला दबाकर हत्या करना ।
 दम चुराना—मुरदे के समान बन जाना ।
 दम टूटना—थक जाना ।
 दम तोड़ना—अन्तिम श्वास निकल जाना, मरना ।
 दम देना—दिलासा देना, बड़ा प्रिय जानना ।
 दम नाक तक आ जाना—व्यग्र हो जाना ।
 दम निकलना—आफत में पड़ना, मरना ।
 दम पर आ बनना—आफत में पड़ना ।
 दम फूलना—साँस फूलना ।
 दम मारने की फुरसत न मिलना—कार्य में बहुत व्यस्त रहना ।
 दम में दम आना—जीवित रहना ।
 दम लेना—आराम करना ।
 दम साधना—साँस रोकना ।
 दमड़ी की घोड़ी छः पसेरी दाना—हैसियत से ज्यादा खर्च ।
 दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में—कामकाजी मनुष्य कभीवेकाम नहीं रहता ।
 दर्पन में मुख देखना—अपने ऐव पर ध्यान देना ।
 दर्यादिल बनना—उदारता दिखलाना ।
 दलदल में फँसना—आफत में पड़ना ।
 दाँत तले अँगुली दवाना—अचरज दिखलाना ।
 दाँत तले तिनका दवाना—विनीत भाव दिखलाना ।
 दाँतों में पत्तीना आ जाना—बहुत मेहनत करना ।
 दाँव चुकाना—बदला लेना ।
 दाँव चूकना—हाथ से मीका जाने देना ।
 दाँव-दाँव करना—इधर-उधर छिपाना ।
 दाल न गलना—विवश हो जाना, लाचार होना ।
 दाल में काला होना—सन्देह होना ।
 दाल रोटी से खुश—सामान्य रीति से जीवन निर्वाह ।
 दाहिने अन्त—अनुकूल होना ।

दिन आना—अन्त समय आ जाना ।
 दिन ईद और रात शब्बेरात—सर्वदा आनन्द में बीतना ।
 दिन काटना—कष्ट से जीवन विताना ।
 दिन दहाड़े—दिन में सबके जागते हुए ।
 दिन दूना रात चौगुनी बढ़ना—अच्छी तरक्की होना ।
 दिन फिर जाना—भाग्योदय होना ।
 दिन भारी हो जाना—जीवन दुःखपूर्ण होना ।
 दिमाग विगड़ना—गर्व करना ।
 दिमाग लड़ना—बहुत सोचना ।
 दिमाग सातवें आसमान में होना—बड़ा घमंड करना ।
 दिया लेकर खोजना—इधर-उधर हँडना ।
 दिल की लगी बुझाना—मानसिक कष्ट शान्त करना ।
 दिल खिलना—प्रसन्न होना ।
 दिल का मला—कपटी मनुष्य ।
 दिल खुलना—संकोच का हट जाना ।
 दिल छीन लेना—प्रेमासक्त होना ।
 दिल चुराना—मोहित करना ।
 दिल फटना—धृणा होना ।
 दिल की दिल में रहना—मन की मन रहना ।
 दिल जमाना—किसी काम के करने में मन लगाना ।
 दिल टूटना—निराश होना, हताश होना ।
 दिल की दिल में रह जाना—अमिलाषा पूर्ण न होना ।
 दिल दहलना—भय त्रस्त होना ।
 दिल दुखाना—कष्ट पहुँचाना ।
 दिल न मिलना—प्रेम न होना ।
 दिल पक जाना—अत्यन्त पीड़ित होना ।
 दिल बढ़ाना—उत्साह बढ़ाना ।
 दिल पत्तीजना—दयायुक्त होना ।
 दिल फीका हो जाना—मन हट जाना ।
 दिल मिलाना—प्रेम करना ।
 दिल में गड़ जाना—अच्छा लगना ।
 दिल में चुभना—चित्त को बुरा लगना ।
 दिल में रखना—गुप्त रखना, प्रिय जानना ।
 दिल से दिल की राहत होना—धनिष्ठ प्रेम होना ।
 दिल से करना—मन लगाकर कोई काम करना ।
 दीपक में बत्ती पड़ना—सन्ध्या होना ।
 दुकान बढ़ाना—दुकान बन्द करना ।
 दुखड़ा रोना—अपना दुःख दूसरे को सुनाना ।
 दुनिया की हवा लगना—संसार के प्रपंचों में पड़ना ।
 दुम दबाकर भाग जाना—तेजी के साथ

भाग जाना ।
 दुपट्टा तानकर सोना—निश्चिन्त रहना ।
 दुह लेना—धन का अपहरण करना ।
 दुहाई देना—न्याय की प्रार्थना करना ।
 हूज का चाँद—जो कभी नजर पड़ जावे ।
 दूध का दूध, पानी का पानी—सच्चा न्याय होना ।
 दूध की नदियाँ बहाना—धन का वैभव दिखलाना ।
 दूध के दाँत न टूटना—बाल्यावस्था, अनुभवहीनता ।
 दून की लेना—शेखी करना ।
 दूर की बात—बुद्धिमानी की वातचीत ।
 दूर की सोचना—भविष्य की बातों पर कल्पना करना ।
 दूर रहना—अलग रहना ।
 दूसरा रंग न चढ़ना—स्थिर रहना, बातें न बदलना ।
 दूसरे का मुँह देखना—दूसरे से मदद चाहना ।
 देख-भाल कर पाँव उठाना—सावधानी से काम करना ।
 देखते रह जाना—चकित होना ।
 देते ही बनना—लाचार होकर देना ।
 देना थोड़ा, दिलासा बहुत—अर्थ स्पष्ट है ।
 दो कौड़ी का हो जाना—अपमानित होना ।
 दो-दो बातें करना—थोड़ी सी वातचीत करना ।
 दो-दो बातों को तरसना—अति दुर्दशा में होना ।
 दो नाव पर पैर रखना—दो पक्षों का समर्थन करना ।
 दोनों तरह से मौत—हर तरह से आपत्ति होना ।
 दोनों हाथों में लड्डू होना—सब तरह की मौज होना ।
 दोस्ती में लेन-देन बैर का मूल—अर्थ स्पष्ट है दृष्टि से गिरना—मान-मर्यादा की हानि ।
 द्वार खुल जाना—उपाय निकालना ।
 द्वार झाँकना—सहायता की प्रार्थना करना ।
 द्विविधा में पड़ना—सन्देहयुक्त होना ।

ध

धक् से (कलेजा) होना—यकायक धबड़ा उठना ।
 धक्का देना—तिरस्कार करना ।
 धक्का खाते फिरना—दुर्दशा होना ।
 धक्का लगना—नुकसान होना, कष्ट मिलना ।
 धड़का खुलना—भयहीन होना ।
 धता बताना—तिरस्कार करना, धूर्तता से टाल देना ।
 धमा धौकड़ी करना—इकट्ठा होकर शोर-गुल मचाना ।
 धर दवाना—हराना, जमीन पर पटक देना ।

घर पकड़ करना—गिरफ्तार करना ।
 घर लेना—पकड़ लेना ।
 धरा रह जाना—व्यर्थ होना ।
 धर्म निभाना—अपने कर्तव्य का पालन करना ।
 धाँधली मचाना—वेकार का झंझट करना ।
 धाक देना—फँसा देना ।
 धाक बाँधना—प्रभाव होना ।
 धार चढ़ाना—शस्त्र आदि की धार तेज करना ।
 धारो धार रोना—बहुत आँसू बहाते हुए रोना ।
 धाँगा धाँगी करना—व्यर्थ का झगड़ा करना ।
 धुकधुकी बँधना—डर जाना ।
 धुन का पक्का—अपने सिद्धान्त का पक्का ।
 धुन बाँधना—चित्त लगाना ।
 धुन सवार होना—किसी विषय के लिये पीछे दौड़ना ।
 धुरें उड़ाना—लजाना, टुकड़े-टुकड़े कर देना ।
 धूनी रमाना—किसी जगह गड़कर बैठना ।
 धूल उड़ना—चेहरा फीका होना, रौनक जाती रहना ।
 धूल डालना—छिपा देना ।
 धूल फाँकना—बेकारी में धूमना ।
 धूल में मिल जाना—नष्ट होना ।
 धूल में मिलाना—नष्ट कर देना ।
 धोखे की टट्टी—भ्रम में डालनेवाला पदार्थ ।
 धोती ढीली होना—डर जाना ।
 धो देना—मिट्टा देना ।
 धोये सौ बार के काजर होय न सेत—नीच मनुष्य की नीचता कमी नहीं जाती ।
 ध्यान से उतरना—मूल जाना ।

न

नंगे बड़े परमेश्वर से—नीच मनुष्य से सब लोग डरते हैं ।
 न इधर के रहे न उधर के रहे—निराश्रय होना ।
 नकेल डालना—वश में करना ।
 नकेल हाथ में होना—वश में होना ।
 नक्कू बनना—बदनाम होना ।
 नख-सिख वर्णन करना—आद्योपान्त वर्णन करना ।
 नजर लगाना—कुदृष्टि का प्रभाव पड़ना ।
 नटखट्टी करना—दुष्टता दिखलाना ।
 नजर में जँचना—पसन्द आना ।
 नजर पर घड़ना—प्रिय बनना ।
 नजरों से गिरना—इज्जत विगड़ना ।
 नजला गिरना—बुरा प्रभाव होना ।
 नदी नाव संयोग—संयोग से नैट होना ।

नथुने फूलाना—क्रोध दिखलाना ।
 नपी-तुली कहना—ठीक ठीक बात कहना ।
 नमक खाना—नौकरी कर लेना ।
 नमक मिर्च लगाना—बढ़ाकर बातें कहना ।
 नमक छिड़कना (कटे पर)—बड़ी तकलीफ देना ।
 नमस्कार करना—त्याग देना, छोड़ना ।
 नया गुल खिलना—विलक्षण घटना होना ।
 नरक भोगना—दुर्गति होना ।
 नसनस में—सम्पूर्ण शरीर में ।
 नसीब न होना—प्राप्त न होना ।
 नसीब लड़ना—भाग्य का अनुकूल होना ।
 नाक कटना—बदनाम होना ।
 नाक कटी पर घी तौ चाटां—बेहया का चिह्न होना ।
 नाक का बाल होना—अति प्रिय होना ।
 नाक न होना—निर्लज्ज होना ।
 नाक पर हाथ धरना—स्वीकार करना ।
 नाक भों सिकोड़ना—नाखुश होना ।
 नाक में दम करना—बहुत परेशान करना ।
 नाक रखना—प्रतिष्ठा स्थापित करना ।
 नाक रगड़ना—अधीन होना ।
 नाक रह जाना—प्रतिष्ठा स्थापित रहना ।
 नाकों चना चवाना—बहुत परेशान करना ।
 नाच नचाना—दिक करना, परेशान करना ।
 नादिरशाही होना—बड़ा अत्याचार होना ।
 नानी मर जाना—शमिन्दा होना ।
 नानी याद आना—व्यग्र होना, धवड़ा जाना ।
 नाम कर जाना—प्रसिद्ध हो जाना ।
 नाम का—केवल कहने मात्र का ।
 नाम कमाना—यश प्राप्त करना ।
 नाम खोना—कलंकित होना ।
 नाम चमकना—यश का फैलना ।
 नाम चलना—प्रसिद्ध होना ।
 नाम डुबोना—यश खो बैठना ।
 नाम निकल जाना—कलंकित होना ।
 नाम विकना—अपराधी बनाना ।
 नाम लगाना—अपराधी बनाना ।
 नाम लेना—याद आना ।
 नाम लेना छोड़ देना—विलकुल मूल जाना ।
 निगाह चढ़ना—खिचकर होना, पसन्द आना ।
 निगाह मोटी करना—अनवन हो जाना ।
 निगाहों में जँचना—पसन्द आना ।
 नियत डावाँडोल होना (बदलना)—लालच में पड़ना ।
 नौद हराम होना—निद्रा न आना ।
 नौव डालना—किसी काम को आरंभ करना ।
 नौचा दिखाना—लज्जित करना ।
 नुकताचीनी करना—ऐव डूँटना ।
 नोक शोक करना—छेड़छाड़ करना ।

नौका डूबना—काम विगड़ जाना ।
 नौ दिन चले अढ़ाई कोस—बड़ी सुस्ती से काम करना ।
 नौ दो ग्यारह होना—भाग जाना ।
 नौबत बजना—आनन्द के बाजे बजना ।

प

पंजा मारना—झपटना ।
 पंजे में करना—वश में करना ।
 पंजे से निकलना—स्वाधीन होना ।
 पक्का पोढ़ा करना—निश्चय करना ।
 पगड़ी उछालना—वेइज्जत करना ।
 पगड़ी उतारना—वेइज्जत करना ।
 पगड़ी की लाज गँवाना—इज्जत खो बैठना ।
 पगड़ी की लाज रखना—मान-मर्यादा बनाये रखना ।
 पगड़ी बदलना—आपस में दोस्ती करना ।
 पगड़ी बाँधना—स्थानापन्न होना ।
 पगड़ी सँभालना—इज्जत बचाना ।
 पचड़ा लेकर बठना—झगड़ा शुरू करना ।
 पट पड़ना—बन्द हो जाना ।
 पट सकना—निभ जाना ।
 पट हो जाना—नष्ट हो जाना ।
 पटरा हो जाना—बहुत हानि पहुँचना ।
 पट्टी में आना—किसी के बहकाने में आना ।
 पट्टी पढ़ाना—बहकाना ।
 पढ़े तो हैं, पर गुने नहीं—व्यावहारिक ज्ञान न होना ।
 पट गँवाना—मान-मर्यादा का नाश होना ।
 पत्ता खड़कना—कुछ आहट पा लेना ।
 पत रख ना—लाज रखना ।
 पत्थर का कलेजा करना—दृढ़ होना, निटुर हो जाना ।
 पत्थर की छाती करना—वीर बनना ।
 पत्थर की लकीर घन जाना—दृढ़ होना ।
 पत्थर डोना—बड़े परिश्रम का कार्य करना ।
 पत्थर तले हाथ आना—परवश हो जाना ।
 पत्थर पड़ना—आपत्ति आना ।
 पत्थर पसीजना—कठोर हृदय मनुष्य में दया होना ।
 पत्थर पानी होना—कठोर हृदय का दयालु होना ।
 पत्थर से पारस होना—निर्धन से धनी बनना ।
 पदानुसरण करना—पीछे-पीछे चलना ।
 पर न मार सकना—पहुँच न होना ।
 पर लगना—चालाक होना ।
 परछाई न पड़ना—प्रभाव न होना ।
 परछाई से भागना—अति घृणा करना ।
 परदा डालना—किसी वान को गुप्त रखना ।

परदा फाड़ होना—भेद खुलना
 परमात्मा के नाम पर देना—वर्मार्थ दान करना ।
 परलोक दिखाना—हत्या करना ।
 परलोक धिमाड़ना—नीच कार्य करना ।
 परलोक यात्रा—मरण, मृत्यु ।
 पराई आग में कूदना—दूसरे के कष्ट में पड़ना ।
 पराधीन सपनहूँ सुख नहीं—पराधीन मनुष्य को कभी सुख नहीं मिलता ।
 परार्थ हाथों पड़ना—विवश हो जाना ।
 पलस्तर ढीला होना—अति शिथिल होना ।
 पल्ला छुड़ाना—छुटकारा पाना ।
 पल्ला पसारना—किसी से कुछ माँगना ।
 पल्ला भारी होना—किसी दल का बलवान् होना ।
 पर्वत पर कुर्वाँ लोढ़ना—वृथा परिश्रम करना ।
 पर्वत से राई करना—बड़े से छोटा बना देना ।
 पलक लगना—नींद लगना ।
 पसीना बहाना—बड़ी मेहनत करना ।
 पसीना-पसीना हो जाना—बहुत घबड़ा जाना ।
 पहले आत्मा, पीछे परमात्मा—अपना स्वार्थ पहले देखकर पीछे दूसरे के हित का विचार करना ।
 पहाड़ टूटना—आफत आना ।
 पाँव पूजना—इज्जत करना ।
 पानी उतर जाना—आवरू जाना, अप्रतिष्ठित होना ।
 पानी का बुलबुला—शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु ।
 पानी की तरह बहाना—बड़ी फजूलखर्ची करना ।
 पानी के मोल विकना—बहुत सस्ते दाम पर विकना ।
 पानी गँवाना—वेइज्जत होना ।
 पानी भरना—दास बन जाना ।
 पानी पानी करना—बहुत लजा देना ।
 पानी पानी होना—लज्जित हो जाना ।
 पानी फेरना—निर्मूल करना, मिटा देना ।
 पानी में आग लगाना—झगड़ा खड़ा करना ।
 पानी पानी हो जाना—दयाद्री होना, सहज होना ।
 पाप का घड़ा भर जाना—बहुत ज्यादा पापों का इकट्ठा होना ।
 पाप काटना—कलह दूर करना ।
 पाप भोटा लेना—जान-बूझकर विपत्ति में पड़ना ।

पापड़ बेलना—बड़ी विपत्ति सहन करना ।
 पार उतार देना—काम पूरा करना ।
 पार पाना—भेद का पता लग जाना, जीतना ।
 पार लगाना—पूरा कर देना ।
 पारस हाथ लगना—अलभ्य वस्तु प्राप्त होना ।
 पाला पड़ना—सम्पर्क होना, वास्ता होना ।
 पासा फँकना—किसी प्रकार का उद्योग लगाना ।
 पिंड छूटना—पीछा छूट जाना ।
 पिता मारना—मन मारना, क्रोध हटाना ।
 पीछा छुड़ाना—छुटकारा पाना ।
 पीछे पड़ना—पेशान करना ।
 पीठ ठोकना—साहस बँधाना ।
 पीठ दिखाना—युद्ध में से भाग जाना ।
 पीठ पर—किसी माता की एक के बाद दूसरी सन्तान को कहा जाता है ।
 पीठ पर हाथ फेरना—शावाशी देना ।
 पीठ पर हाथ होना—सहायक बनना ।
 पीठ पीछे—किसी की अनुपस्थिति में ।
 पीठ फेरकर बैठना—असन्तुष्ट होना ।
 पीर बवर्ची—बह मनुष्य जिससे सभी प्रकार का काम लिया जाता है ।
 पीस डालना—नष्ट, करना, बड़ा कष्ट देना ।
 पुकार सुनना—विनती सुनना ।
 पुतलियों का तमाशा दिखाना—छल करना ।
 पुल बाँधना (बातों का)—बातों को बढ़ाकर कहना ।
 पूछ होना—आदर होना ।
 पूछते पूछते दिल्ली चले जाना—सर्वत्र जाने का मार्ग है ।
 पूत के पाँव पालन में पहुँचने जते हैं—वाल्यावस्था में ही लड़कों के भविष्य का अनुमान होता है ।
 पूत अपनी सबको प्यारी—अपनी सन्तान सबको प्यारी लगती है ।
 पूर्वापर सोचना—आदि अन्त का विचार करना ।
 पेंच खोलना—बोखा देना ।
 पेंच घुमाना—चित फेरना ।
 पेंच में पड़ना—विपत्ति में फँसना ।
 पेट काटना—पूरा भोजन न देना ।
 पेट का पानी न हिलना—भेद को गुप्त रखना ।
 पेट की आग बूझाना—भोजन करना ।
 पेट की मार देना—मुखों मारना ।
 पेट जो चाहे सो करावे—जीविका के लिये अनेक प्रकार के भले-बुरे काम किये

जाते हैं ।
 पेट पालना—जीवन का निर्वाह ।
 पेट पालना कुत्ता भी जानता है—स्वार्थी पुरुष अपना मतलब साब लेता है ।
 पेट पीटना—भूख के मारे शोर गुल मचाना ।
 पेट में चूहे दौड़ना—भूख लगना ।
 पेट पीठ एक हो जाना—अति दुर्बल होना ।
 पेट में घुसना—रहस्य का पता लगाना ।
 पेट में पेंटना—भेद का पता लगाना ।
 पेट में बात न पचना—रहस्य को छिपाकर न रखना ।
 पेट से होना—गर्भवती होना ।
 पैतरे बदलना—छल करना ।
 पैर आगे न पड़ना—साहस कम होना ।
 पैर उखड़ जाना—व्यग्र होना, घबड़ा जाना ।
 पैर उखड़ना—हारकर भाग जाना ।
 पैर जमना—अधिकार करना ।
 पैर के नीचे निकल जाना—अति व्यग्र होना ।
 पसे के तीन अधले भुनाना—बड़ी कंजूसी दिखलाना ।
 पोथे के पोथे रँगना—बहुत-सी पुस्तक लिख डालना ।
 पील खोलना—गुप्त बातों को प्रकाशित करना ।
 पौ फटना—प्रातःकाल होना ।
 पौ बारह होना—अच्छा मुनाफा होना ।
 पौने सोलह आना ठीक—प्रायः दुस्त ।
 प्याज के छिलके उतारना—भेद खोलना ।
 प्रकाश डालना—स्पष्ट करना ।
 प्रथम प्रास में सबकी पड़ना—आरंभ में ही विघ्न होना ।
 प्रभुता पाय काहि सद् नहीं—अधिकारी बनने पर सबको अभिमान हो जाता है ।
 प्रशंसा करते मुँह सूखना—बड़ी शूश्रूपा करना ।
 प्राण खाना—बड़ा परेशान करना ।
 प्राण बंड देना—फाँसी देना ।
 प्राण दान देना—जान बचाना ।
 प्राण निकलना—मृत्यु को प्राप्त करना ।
 प्राणपलेख उड़ना—मृत्यु को प्राप्त होना ।
 प्राण सूख जाना—बहुत डर जाना ।
 प्राण हरना—जान मार डालना ।
 प्राणों पर वीतना—आफत में पड़ना ।
 प्राणों में प्राण आना—मन सावधान होना ।
 प्रेम में नेम कहाँ—प्रेम में कोई नियम नहीं रहता ।

फंदे में पड़ना—छला जाना ।
 फटा मन, फटा दूध नहीं मिलता—अर्थ स्पष्ट है ।

फटे पड़ना-अभिमान करना ।
 फड़क उठना-प्रसन्न होना ।
 फरियाँ उड़ाना-हँसी दिल्लगी करना ।
 फल पाना-बदला मिलना ।
 फलना, फूलना-मनोरथ सिद्ध होना ।
 फाँड़ा बाँधना-तैयार हो जाना ।
 फाँसी लगाना-बड़ा कष्ट होना ।
 फाँके पड़ना-भूलों मरना ।
 फाग खेलना-आनन्द मचाना ।
 फाड़ खाने को दौड़ना-भयंकर क्रोध दिखलाना ।
 फिर जाना-साथ छोड़ देना ।
 फूँक डालना-वरवाद करना ।
 फूँक से पहाड़ उड़ाना-थोड़ी-सी शक्ति से बड़े काम करने का उद्योग करना ।
 फूट डालना-शत्रुता बढ़ाना ।
 फूट-फूट कर रोना-बहुत विलाप करना ।
 फूँदी आँख न खुलाना-अच्छा न लगना ।
 फूल कर कुप्पा हो जाना-बहुत खुश होना ।
 फूल कर बैठना-अपने बड़े अभिमान में रहना ।
 फूल जाना-बहुत खुश होना ।
 फूल दहनी में ही अच्छा लगता है-सभी वस्तु अपनी जगह पर ही अच्छी लगती हैं ।
 फूल बौना-भलाई करना ।
 फूल सूँघ कर रहना-अनशन करना, कुछ न खाना ।
 फूलान न समाना-बहुत खूश होना ।
 फूले अंग न समाना-अति प्रसन्न होना ।
 फरे में धा जाना-घोखे में पड़ जाना ।
 फरे पड़ना-व्याह होना ।

ब

बंदाधार करना-नाश करना ।
 बंद बंद अलग करना-टुकड़े-टुकड़े करना ।
 बंद बंद जकड़ जाना-सम्पूर्ण शरीर में पीड़ा होना ।
 बंदर घुड़की-झूठा भय दिखलाना ।
 बंदर के हाथ आइना-जो जिस वस्तु का गुण नहीं जानता वह उसको देना ।
 बकरे की माँ कबतक खैर मनायेगी-जिसका नाज होना हो वह नहीं बच सकता ।
 बगलें बजाना-खुशी दिखलाना ।
 बगुला भगत होना-पाखंड दिखलाना ।
 बचकर खेलना-सचेत होकर काम करना ।
 बछिया का ताऊ-परम मूर्ख व्यक्ति ।
 बटन खोल देना-उदार बन जाना ।
 बट्टा लगाना-ब्रेड्ज्जत होना ।
 बट्टी चोल बोलना-शेखी हाँकना ।
 बट्टी बड़ी बातें करना-शेखी दिखलाना ।

बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है-बलवान् सदा निर्बल को कष्ट देते हैं ।
 बड़े घर की हवा खाना-बन्दीगृह में जाना ।
 बड़े मिथों तो बड़े भ्रियाँ, छोटे मिथों सुभान अल्लाह-छोटे का बड़े से गुण आदि में बढ़कर होना ।
 बड़े बोल का सिर नीचा-बहुत बड़े अभिमानी का अवश्य नाश होता है ।
 बढ़-बढ़कर बात करना-गर्व दिखलाना ।
 बत्तीसी गिनना-सब दाँतों को टूट जाना ।
 बने रहना-जीवित रहना ।
 बन गये तो लालाजी, बिगड़ गये तो बूढ़-काम बन जाने पर सभी वाहवाही देते हैं और बिगड़ जाने पर मूर्ख बनाते हैं ।
 बनिये की सलाह बेगरोज नहीं होती-बनिये बड़े स्वार्थी होते हैं ।
 बराबर करना-अन्त करना ।
 बहती गंगा में हाथ धोना-सुवरी हालत में अच्छे काम करना ।
 बहार लूटना-आनन्द लेना ।
 बहुत से जोगी मठ उजाड़-काम करनेवाले अनेक परन्तु उसका फल कुछ न होना ।
 बाँबी में हाथ तू डाल, मन्त्र में पढ़-किसी दूसरे को आपत्ति में डालना और स्वयं बचे रहना ।
 बाँधे हाथ का खेल-अति सहज कार्य ।
 बाँसों उछलना-बहुत प्रसन्न होना ।
 बाँह पकड़ना-आश्रय देना ।
 बाई पच जाना-शान्त होना ।
 बाग उठाना-घोड़े को हाँकना ।
 बाग ढौली करना-किसी विषय में शिथिलता दिखलाना ।
 बाजार गर्म होना-किसी पदार्थ की अधिकता ।
 बाजार मन्दा पड़ना-बेंचा-विक्री का कम होना ।
 बाजी मारना-कार्य की सिद्धि होना ।
 बाढ़ पर बढ़ना-बहकाने में आ जाना ।
 बात काटना-बीच में बोल उठना ।
 बात का पूरा होना-दृढ़ संकल्प होना ।
 बात का वतंगड़ करना-थोड़ी-सी बात को बड़ा देना ।
 बात की बात में-तुरत, फौरन ।
 बात खुल जाना-भेद मालूम हो जाना ।
 बात टालना-ठीक जवाब न देना ।
 बात जाना-इज्जत रोकना ।
 बात न पूछना-सम्मान न करना ।
 बात तक न पूछना-किसी की इज्जत न करना ।
 बात न पूछना-उपेक्षा करना ।

बात पकड़ना-किसी के कथन में दोष निकालना ।
 बात पी जाना-बात सुनकर चुप रह जाना ।
 बात पक्की होना-निश्चय होना ।
 बात बढ़ाना-झगड़ा बढ़ाना ।
 बात बनाना-झूठ बोलना ।
 बात भला न भैया सबसे बड़ा रुपैया-धन की बड़ी महिमा है ।
 बात में आना-किसी के कहने को मान लेना, धोखे में पड़ना ।
 बात रख लेना-इज्जत बचाना ।
 बातों में उड़ाना-टालमटोल करना ।
 बातों पर न जाना-विश्वास न करना ।
 बाधवाई फिरना-इधर-उधर मारे-मारे फिरना ।
 बानगी दिखाना-नमूना दिखलाना ।
 बाप-दादों का नाम डुवाना-कुल की मर्यादा को नष्ट करना ।
 बाप ने मारी गौदड़ी बेटा तीरंदाज-झूठे शेखी लेनेवाला मनुष्य ।
 बारह पत्थर बाहर करना-शहर बाहर निकाल देना ।
 बाल की खाल निकालना-बड़ी धानवीन करना ।
 बाल बाँका न होना-किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचना ।
 बाल-बाल बचन-बेलाग बच जाना ।
 बाल-बाल मोती पिरौना-बड़ी सजबज करना ।
 बाल सफेद होना-बृद्ध होना ।
 बालू की भीत-शौघ्र नष्ट होनेवाला पदार्थ ।
 बासी कड़ी में उदाल आना-बृद्धावस्था में जवानी की उमंग ।
 बिगड़ जाना-धनहीन हो जाना ।
 बिगड़ बैठना-अप्रसन्न होना ।
 बिजली गिरना-बड़ी आपत्ति आ पड़ना ।
 बिलख बिलख कर रोना-बड़ा विलाप करना ।
 बिल्ली से दूध की रखवाली करना-जानते हुए आपत्ति में डालना ।
 बीच-बचाव करना-झगड़ा तय करना ।
 बीच में पड़ना-हस्तक्षेप करना ।
 बीड़ा उठाना-किसी बात को करने का दृढ़ निश्चय करना ।
 बूत बन रहना-बुपचाप बँटे रहना ।
 बूत्ते देना-धोखा देना ।
 बूढ़े तोते को पड़ना-बूढ़े को निजा देना ।
 बंगार टालना-चित्त बनाकर काम न करना ।

बेड़ा पार करना—कार्य समाप्त करना ।
 वेतुकी हाँकना—व्यर्थ की बातें करना ।
 देदाग बचना—किमी तरह का नुकसान न होना ।
 बेपैदी का लोटा—विना किसी सिद्धान्त का मनुष्य ।
 वेवक्त की बहनाई बजाना—वेमौके की बातें करना ।
 वे सिर-पैर की हाँकना—वे मतलब की बातें करना ।
 दैठे दैठाये—विला किसी बजह के ।
 वोझ उठाना—किसी काम की जवाबदेही अपने ऊपर लेना ।
 वोझ हलका होना—चिन्ता कम होना ।
 बोल जाना—टूट जाना, मर जाना ।
 बोलती बन्द करना—चुप कर देना ।
 बोलबाला होना—इज्जत बढ़ना ।

भ

भंग खाना—बुद्धि भ्रष्ट होना ।
 भंडा फोड़ना—भेद खोलना ।
 भँवर में नाव फँसना—विपत्ति में पड़ जाना ।
 भड़क उठना—क्रुद्ध होना ।
 भनक पड़ना—सुन पड़ना ।
 भन्ना उठना—उत्तेजित होना ।
 भद्रकी देना—वमकाना ।
 भभूत रमाना—संन्यासी बन जाना ।
 भर पाना—मिल जाना, प्राप्त करना, बदला मिल जाना ।
 भरम खुलना—रहस्य का प्रकट होना ।
 भरम गँवाना—मान-मर्यादा खोना ।
 भरी थाली में लात मारना—मिली हुई संपत्ति को त्याग देना ।
 भरे को भरना—वनवान् को धन देना ।
 भरेंमें आना—किसी के कपट में पड़ जाना ।
 भाग्य का पलटा खाना—भाग्य में परिवर्तन होना ।
 भाग्य खुलना—अच्छे समय का आना ।
 भाग्य बमकना—भाग्योदय होना ।
 भाड़ में जाना—नाश होना ।
 भाड़ शोकना—नीच कार्य करना ।
 भाड़े का दट्टू—पैसा लेकर काम करनेवाला ।
 भाँप लेना—जान लेना ।
 भारी बन के दँठना—बड़ा अभिमान करना ।
 भीगी बिल्ली बन जाना—डर से दब जाना ।
 भीतर ही भीतर—चित्त में ।
 भीष्म प्रतिज्ञा करना—कठिन प्रतिज्ञा ठान लेना ।
 भुजा उठाना—प्रतिज्ञा करना ।
 भुजा दूटना—भाई की मृत्यु ।

भुरकुस निकालना—खब मारपीट करना ।
 भूत चढ़ना—क्रोध आना ।
 भूत झाड़ना—अभिमान हटाना ।
 भूलभुलैया में पड़ना—व्यग्र होना, घबड़ा जाना ।
 भेड़ियाघसान बचना—विना सोचे-विचारे पीछा करना ।
 भैंसके आगे बोन बजावे भैंस लगी पगुराय—मूर्ख के आगे बुद्धिमानी की बातें कहना निष्फल होता है ।
 भोर का मुर्गा बोला, पंछी मुँह खोला—प्रातःकाल हुआ और पेट भरने की चिन्ता लगी ।
 भौर न छांडे केतकी तीखे कंटक जान—अनेक आपत्तियों के होने पर भी प्रेमियों का प्रेम नहीं हटता ।
 भौंहे चढ़ाना—क्रोध करना ।

म

मँगनी के बँल के दाँत नहीं देखे जाते—अर्थ स्पष्ट है ।
 मक्खियरँ भिनकना—घणित बने रहना ।
 मक्खी मारना—बेकार बैठे रहना ।
 मग्ज चाटना—बकवाद किये जाना ।
 मछली के बच्चों को तैरना कौन सिखाता है—स्वभाव से ही जाति गुण प्राप्त होता है ।
 मजा चखाना—बदला देना, सजा देना ।
 मतलब के लिए गधे को वाप बनाना—अपना मतलब सिद्ध करने के लिये नीच का भी मान करना ।
 मतलब गाँठना—स्वार्थ सिद्धि ।
 मन के लड्डू खाना—मन की तरफें करना ।
 मन चंगा तो कठौती में गंगा—यदि मन शुद्ध है तो किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं ।
 मन भावे मूड़ डुलाने—इच्छा होने पर भी अस्वीकार करना ।
 मन मारे बैठना—उदास होना ।
 मनमानी घरजानी करना—जो कुछ इच्छा हो उसको करना ।
 मन रखना—सन्तोष देना ।
 मन रीझना—चित्त प्रसन्न होना ।
 मरता बयान करता—मृत्यु की आशंका होने पर मनुष्य सभी काम करता है ।
 मरने तक की फुरसत न मिलना—काम में बड़े लीन रहना ।
 मरने पर वैद्य बुलाना—काम खराब हो जाने पर सुधारने का प्रयत्न करना ।
 मर भिटना—किसी काम के करने में बड़ा कष्ट उठाना ।

मरम्मत करना—मारना ।
 मलमलकर पैसा देना—बड़ी कृपणता दिखलाना ।
 मलयगिरि की भीलनी चन्दन देत जराय—जहाँ पर कोई वस्तु बहुतायत से होती है वहाँ उसकी कदर नहीं होती ।
 गल्हार गाना—आनन्द मचाना ।
 मसक जाना—जीर्ण वस्त्र का दबकर फट जाना ।
 महाभारत होना—लड़ाई-झगड़ा होना ।
 माँग उजड़ना—विधवा होना ।
 माँगी धौत भी न मिलना—अभिलषित वस्तु का प्राप्त न होना ।
 माँगे रहड़ दे बहेड़ा—बुद्धि विपरीत होना ।
 माता का दूध लजाना—डरपोक होना ।
 माथा खाली करना—बहुत बकवाद करना ।
 माथा पटकना—व्यर्थ का प्रयत्न करना ।
 मान न मान मैं तेरा मेहमान—इच्छा के विरुद्ध होना ।
 मानो तो देव नहीं पत्थर—विश्वास ही फलदायक होता है ।
 मार के आगे भूत भागे—मार से सभी डरते हैं ।
 मारते के अगाड़ी और भागते के पिछाड़ी—बड़ा कायर मनुष्य ।
 मार-मारकर वैद्य बनाना—जवरन् योग्य बनाने का प्रयत्न करना ।
 मारा जाना—बड़ी तकलीफ पहुँचाना ।
 माल उड़ाना—धन का अपव्यय करना ।
 माल सुपत दिल बेरहम—दूसरे का धन उड़ाने में संकोच नहीं रहना ।
 मिजाज न मिलना—बड़ा अभिमान करना ।
 मिट्टी खराब करना—वैज्जत करना ।
 मिट्टी देना—शव को गाड़ना ।
 मिट्टी पलीद करना—बुद्धशा करना ।
 मिट्टी में मिल जाना—नष्ट हो जाना ।
 मिट्टी हो जाना—नष्ट होना ।
 मियाँ की जूती मियाँ का सर—किसी की वस्तु से उसका नुकसान होना ।
 मियाँ वीवी राजी तो ब्या करेगा काजी—दोनों पक्ष का यदि अभिमत है तो झगड़ा काहे का ।
 मिरचे लगना—बुरा लगना ।
 सीठा दर्द—हलकी पीड़ा ।
 सीठा सीठा गप्प फड़वा कड़वा यू—अच्छी वस्तु रख लेना और खराब को फेंक देना ।
 सीठी मार मारना—मला बनकर बुराई करना ।
 सीठी छुरी—मित्र बनकर हानि पहुँचानेवाला ।
 मुँह काला होना—कलंकित होना ।

मुंह की खाना-कठोर उत्तर मिलना ।
 मुंह खराब करना-गाली बकना ।
 मुंह चढ़ाना-ढीठ बनाना ।
 मुंह चाटना-खुशामद करना ।
 मुंहताकना-कुछ पाने की अभिलाषा करना ।
 मुंह देख की मोहब्बत-झूठा प्रेम ।
 मुंह पकड़ना-बोलने न देना ।
 मुंह पर हवाई उड़ना-चेहरा फीका पड़ जाना ।

मुहमांगी मौत भी न मिलना-चाही हुई वस्तु का प्राप्त न होना ।
 मुंह मीठा करना-मिठाई खिलाना ।
 मुंह में पानी भर आना-लालच उत्पन्न होना ।

मुट्ठी गरम करना-घूस देना ।
 मुट्ठी में आना-वशीभूत होना ।
 मुहरमी सूरत-रोनी सूरत ।
 मूछों पर ताव देना-शेखी दिखलाना ।
 मूदंग बजाना-आनन्द करना ।
 भेड़े लड़ाना-झगड़ा खड़ा करना ।
 मंदा न मारना-विजय प्राप्त करना ।
 मोची का मोची रह जाना-मूर्ख का मूर्ख बने रहना ।

मोम हो जाना-मृदु होना ।
 मोरचा मारना-विजय प्राप्त करना ।
 मौत के दिन पूरे करना-दुःख से जिन्दगी बिताना ।
 म्याऊँ का ठौर कौन पकड़े-भय के स्थान में कौन जावे ।
 म्यान के बाहर हो जाना-क्रोधवश होना ।

य

यथा नाम तथा गुण-जैसा नाम वैसा गुण ।
 यमपुर जाना-मृत्यु को प्राप्त होना ।
 यमपुर भोजना-मार डालना ।
 यज्ञ में आहुति देना-क्रोध भड़काना, अच्छे काम में लगना ।

यज्ञ सफल होना-अच्छा काम पूरा होना ।
 युग बीत जाना-बहुत काल व्यतीत होना ।
 योग देना-सहायता करना ।

र

रंग उड़ना-मुख फीका पड़ जाना ।
 रंग चढ़ना-नशे में चर होना ।
 रंग जमना-प्रभाव होना ।
 रंग देखना-नतीजा देखना ।
 रंग भंग होना-मजा बिगड़ जाना ।
 रंग बाँधना-प्रभाव दिखलाना ।
 रंग लाना-प्रभाव दिखलाना ।
 रकाव में पँर रखना-तैयार हो जाना ।

रक्त की नदी बहाना-बड़ा युद्ध होना ।
 रग रग जानना-अच्छी तरह से पहिचानना ।
 रफू चक्कर होना-भाग जाना ।
 रसातल को पहुँचा देना-सर्वनाश करना ।
 रस्ती का साँप बनाना-बेमतलब की झंझट खड़ी करना ।
 रस्ती जल गई ऐंठन न गयी-नाश हो जाने पर भी हठ न गया ।
 रह रह करके-थोड़ी-थोड़ी देर बाद ।
 रहा-सहा-बचा हुआ ।
 राई का पर्वत करना-छोटी-सी बात को बहुत बढ़ाकर कहना ।
 राई रस्ती से जानकारी-पूरी तरह से जानकारी ।

रात दिन एक करना-निरन्तर परिश्रम करना ।
 राम कहानी कहना-अपना दुखड़ा रोना ।
 रामराज्य-सुखपूर्ण राज्य ।
 राम राम करके प्राण बचाना-बड़ी कठिनाई से जान बचाना ।

राम राम जपना पराया माल अपना-देखने में सीधा हृदय का कुटिल होना ।
 राह ताकना-इत्तजारी करना ।
 राह पर लाना-सुधारना ।
 रुपया ठीकरी करना-फजूल खर्च करना ।
 रुपया परखें बार बार,आदमी परख एकवार-मनुष्य एक ही बार जाँचा जाता है, रुपया कई बार परखा जाता है ।

रोकड़ मिलाना-आय-व्यय का हिसाब करना ।
 रोज कुवाँ खोदना, रोज पानी पीना-रोज कमाना, रोज खाना ।
 रोजगार चमकना-रोजगार में लाभ होना ।
 रोटी तोड़ना-विना मेहनत के जीविका चलाना ।

ल

लंगड़ लड़ाना-झगड़ा खड़ा करना ।
 लंगर उठाना-जहाज को चालू करना ।
 लंगर डालना-हिम्मत हारना ।
 लंगोटिया धार-बाल्यावस्था का मित्र ।
 लंगोटी पर फाग खेलना-दरिद्रता में आनन्द मचाना ।
 लंगोटी बंधवा देना-दरिद्र कर देना ।
 लंवी-सौड़ी हाँकना-शेखी हाँकना ।
 लंवी तानना-सो जाना ।
 लकीर पीटना-समयचूकने पर वृथा उद्योग करना ।
 लफड़ी के चल बंदरिया नाचे-भय दिखाना-कर काम कराना ।

लकीर का फकीर होना-पुरानी बातों को डोना ।

लगाव रखना-संबंध रखना ।
 लगा लगाना-उपाय सोचना ।
 लगे हाथ करना-सिलसिले में कोई काम कर डालना ।
 लटके रहना-अनिश्चित अवस्था में रहना ।
 लपेट में आना-विपत्ति में फँस जाना ।
 लल्लो-चप्पो करना-विनती करना ।
 लहू के घूंट पीना-बड़ी आपत्ति सहन करना ।
 लहू चूसना-बहुत परेशान करना ।
 लहू पसीना एक करना-बड़ी मेहनत करना ।
 लहू लगाकर शहीदों में भरती-थोड़ा-सा काम कर नामवरी चाहना ।
 लहू सूख जाना-बड़ा भयभीत होना ।
 लाख का घर खाक होना-बड़ी संपत्ति का नाश होना ।

लागडॉट करना-शत्रुता करना ।
 लात मारना-तिरस्कार करना ।
 लातों के भत बातों से नहीं मानते-नीच मनुष्य विना मार खाये सीधा नहीं होता ।
 लाल झंडी दिखाना-काम में रुकावट डालना ।

लासा लगाना-धोखे में फँसाना ।
 लीपापोती करना-ऐव छिपाने का प्रयत्न करना ।

लुटिया डबोना-काम विगाड़ना ।
 लेने के देने पड़ना-लाम के बदले हाति होना ।

ले मरना-आफत में डालना ।
 लोटपोट हो जाना-अति प्रसन्न होना ।
 लोहा मानना-किसी के पराक्रम को स्वीकार करना ।

लोहा लेना-युद्ध करना ।
 लोहे के चने चवाना-परिश्रम का काम करना ।

लौ लगना-बुन लगना ।

व

वकीलों के हाथ पराये जेब में-वकील लोग दूसरे से धन लेने का सर्वदा प्रयत्न करते हैं ।

वचन तोड़ना-अपनी प्रतिज्ञा से हट जाना ।
 वज्र बहिरा-बिलकूल बहुरा ।
 वसंत की सबर न होना-जानकार न होना ।
 यह गुड़ नहीं जो चोटी साथ-हम बड़े मनेत हैं, दूसरा हमको ठग नहीं सकता ।
 धम की दवा लुप्तमान के पास नहीं है-सन्देश की कोई भीषण नगार में नहीं है ।

वार देना—न्योछावर करना ।
 वाहवाही होना—प्रशंसा होना ।
 विभीषण बनना—घर का भेदिया होना ।
 विप उगलना—विपरीत बोलना ।
 विप के घूंट पीना—कटु वचन सहन करना ।
 वीरगति प्राप्त करना—वीरता से लड़कर मरना ।
 वेदवाक्य समझना—प्रामाणिक मानना ।
 वंकुठवास—मृत्यु ।

श

शरीर में आग लगना—क्रोध उत्पन्न होना ।
 शरीर में बिजली दौड़ना—उत्तेजित होना ।
 शस्त्र में डीले होना—साहस टूट जाना ।
 शह देना—उभाड़ना, भड़काना ।
 शहद लगाकर चाटना—वैकाम समझकर रख छोड़ना ।
 शान दिखाना—गर्व करना ।
 शिकंजे में पड़ना—आफत में पड़ना ।
 शिकार हाथ लगना—असामी मिल जाना ।
 शिकार होना—फन्दे में पड़ना ।
 शीश में उतारना—वश में करना ।
 शखी बघारना—अभिमान दिखलाना ।
 शेर और बकरी को एक घाट पानी पिलाना—विना पक्षपात का न्याय करना ।
 शेर के मुँह में हाथ डालना—साहस का काम करना ।
 शैतान के कान काटना—भेद का पता लगाना ।
 श्रीगणेश करना—किसी कार्य का आरंभ करना ।

ष

षडयंत्र रचना—छिपकर किसी भयंकर कार्य को करने का उद्योग करना ।
 षट्पराग में पड़ना—आपत्ति में पड़ना ।
 षडूरस भोजन करना—आनन्द से समय विताना ।
 षोडश शृंगार करना—खूब सिंगार-पटार करना ।

स

संकल्प-विकल्प करना—सोच-विचार में पड़ना ।
 सइयाँ भये कोतवाल अब भय काहे का—किसी को उच्च पद मिल जावे तो उसके आश्रित निश्चिन्त रहते हैं ।
 सखी से सूम भला जो तुरत दे जवाब—अर्थ स्पष्ट है ।
 सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुँह काला—

सच्चा सर्वत्र पूजित होता है, झूठे का कोई विश्वास नहीं करता ।
 सठिया जाना—बुद्धि भ्रष्ट होना ।
 सत्तू बाँधकर पीछा करना—बुरी तरह से परेशान करना ।
 सदा कागज की नाव नहीं बहती—छल सर्वदा फलीभूत नहीं होता ।
 सदा की नौद सौना—मृत्यु को प्राप्त करना ।
 सनक सवार होना—बुद्धि भ्रष्ट होना ।
 सन्नाटे में आ जाना—भूक होना, डर जाना ।
 सफेद झूठ—ऐसा झूठ जिसमें सचाई का लेशमात्र भी न हो ।
 सफाई देना—निर्दोष सिद्ध करने का उद्योग ।
 सब गुड़ गोबर ही जाना—किया-कराया काम विगड़ जाना ।
 सब धान बाइस पसेरी—भले बुरे को समान जानना ।
 सब रामायण सुन गये सीता किसका नाम—सब समझकर भी अनजान बनना ।
 सब्ज बाग दिखलाना—झूठी आशा दिखलाना ।
 सब शकल लंगूर की एक डुम की कसर है—वदसूरत मनुष्य के लिये प्रयोग होता है ।
 सर करना—जीतना, विजय पाना ।
 साँप को दूध पिलाना—दुष्ट के साथ उपकार करना ।
 साँप छछूँदर की गति होना—द्विविधा में पड़ना ।
 साँप भी मरे और लाठी भी न टूटे—काम बन जाय और कोई हानि भी न हो ।
 साँस तक न लेना—चुप रह जाना ।
 साँस पूरे होना—मृत्यु होना ।
 साई देना—किसी काम के लिये कुछ पेशगी देना ।
 साढ़े साती आना—अभाग्य का समय आना ।
 सात-पाँच करना—छल-कपट करना ।
 साये से भागना—नफरत करना ।
 सारे जमाने की बातें सुनना—दुनिया में बुरा कहा जाना ।
 सिंहासन डिगाना—भयभीत होना ।
 सिक्का जमना—प्रभाव फैलना ।
 सिक्का जमाना—घाक बैठाना ।
 सिटपिटा जाना—घबड़ा उठना ।
 सितम ढाना—बड़ा क्लेश देना ।
 सितारा चमकना—भाग्यवान् होना ।
 सिर आँखों पर बैठना—अति प्रिय होना ।
 सिर उठाकर चलना—अभिमान दिखाना ।
 सिर उगाना—उपद्रव खड़ा करना ।
 सिर ऊँचा होना—इज्जत होना ।
 सिर काटना—बड़ी तकलीफ देना ।
 सिर गरम होना (फिर जाना)—पागल

होना ।

सिर चढ़ाना—डीठ करना ।
 सिर झुकाना—प्रतिष्ठा करना ।
 सिर देना—वलिदान करना ।
 सिर धुनना—पछताना ।
 सिर पकड़कर रोना—बड़ा पश्चात्ताप करना ।
 सिर पटकना—बड़ा उद्योग करना ।
 सिर पर आना—पास आना ।
 सिर पर आ पहुँचना—नजदीक आ जाना ।
 सिर पर कोई न होना—अनाथ होना ।
 सिर पर खड़ा होना—बहुत पास आना ।
 सिर पर खून सवार होना—हत्या करने के लिये उतारू होना ।
 सिर पर भूत सवार होना—बुद्धि-भ्रष्ट होना ।
 सिर पर से तिनके उतारना—थोड़ा उपकार करना ।
 सिर पर लेना—अपने जिम्मे में लेना ।
 सिर पर सौत आना—मृत्यु पास होना ।
 सिर पर हाथ रखना—सहायक होना ।
 सिर मारना—बड़ा उद्योग करना ।
 सिरमौर बनाना—अधिक प्रतिष्ठा करना ।
 सिरहाने का साँप—पास का शत्रु ।
 सिर हिलाना—अस्वीकार करना ।
 सिर होना—व्यग्र करना ।
 सीधा बनाना—गर्व हटाना ।
 सीधी नजर से देखना—शिष्टता का व्यवहार करना ।
 सीधे मुँह बात न करना—घमंड दिखलाना ।
 सुखाँव का पर लगाना—विशिष्टता होना ।
 सुरमा बना डालना—बहुत महीन पीसना ।
 सुहाग लूट जाना—विधवा होना ।
 सूई के नोके से निकालना—बड़ी तकलीफ देना ।
 सूखकर काँटा हो जाना—बड़ा दुर्बल होना ।
 सूखा जवाब देना—विना कुछ दिये टाल देना ।
 सूरज धूल डालने से नहीं छिपता—नीचों की दुष्टता से भले आदमियों का गुण नहीं छिपता ।

ह

हँस-खेलकर मारना—प्रेम दिखलाते हुए कष्ट देना ।
 हक्का-बक्का रह जाना—अचरज में पड़ना ।
 हजम करना—हूर लेना ।
 हजामत बना देना—ठाग लेना ।
 हजारों टाँकी सहकर महादेव बनते हैं—कष्ट विना उठाये महत्त्व नहीं मिलता ।
 हड़बड़ा उठना—घबड़ा जाना ।
 हड़प लेना—ठाग लेना ।
 हथियार रख देना—आधीन हो जाना ।

Authenticated Administrative Phraseology of Words & Terms.

प्रासांगिक प्रशासनिक शब्दावली

जनतंत्र की केन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासन व्यवस्था में प्रयुक्त आंग्ल पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी अर्थ

A

Abandonment—परित्यजन, परित्याग ।
 Abandonment of holdings—जोतों का परित्याग ।
 Abate—कमी होना, उपशमित होना, उपशमन करना ।
 Abatement—कमी, छूट, समाप्ति, अंत, उपशमन, कटौती ।
 Abatement of land Revenue—मालगुजारी का घटना या घटाया जाना ।
 Abatement of rent—भारक या भाड़े में कमी ।
 Abbreviated—संक्षिप्त, संक्षिप्त किया गया ।
 Abbreviation—संक्षेप संक्षिप्त रूप, शब्द संक्षेप ।
 Abduction—अपहरण, भगाना, अपवर्तन ।
 Abet—अवप्रेरित करना ।
 Abetment—अवप्रेरण, अवप्रेरणा ।
 Abide—टिकाना, जारी रहना ।
 Abide by—पालन करना ।
 Abide by rules—नियमों का पालन करना ।
 Ablution—तीर्थ स्नान ।
 Abnormal—असामान्य, अपसामान्य ।
 Abolition—समाप्ति, उन्मूलन, समाप्त करना ।
 Abolition of post—पद तोड़ना या समाप्त करना ।
 Above-noted—ऊपर लिखा हुआ, ऊपर उद्धृत ।
 Above par—प्रत्यक्ष मूल्य से ऊपर, अधिक मूल्य पर ।
 Above standard—प्रमाण से ऊपर, माप से ऊपर ।
 Abrogate—निराकरण करना ।
 Abscond—भाग जाना, फरार होना ।
 Absconder—प्रपन्नायी, फरार ।
 Absconding—फरार, प्रपन्नायी ।

Absence—अनुपस्थिति, गैरहाजिरी ।
 Absentee—अनुपस्थाता ।
 Absentee statement—अनुपस्थिति का विवरणपत्र, गैरहाजिरी का नक्शा ।
 Absolute Order—निरपेक्ष आज्ञा ।
 Absorption (of temporary hands into permanent vacancies)—खपना, खपा लेना, खपत, अन्तर्भूत करना, अन्तर्भाव (अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी रिक्त स्थानों में) ।
 Abstract—(n.) सार, सारांश, सत्व (Med.), सामान्य; (adj.) अमूर्त, गुणवाची ।
 Abstract Book—सार पुस्तक ।
 Abstract of cost—लागत का सार ।
 Abstract of stock issues—दिये गये सामान का उपसंक्षेप ।
 Abutment—मेहराब का पाया, अंत्याधार ।
 Academic—शिक्षा-संबंधी, शैक्षिक, विद्योचित, शास्त्रीय, आधिबिद्य ।
 Academy—विद्वत् परिषद् ।
 Accede to—स्वीकार करना, मान लेना ।
 Acceleration—त्वरण ।
 Acceptance—अंगीकृति, अंगीकार, स्वीकृति, स्वीकार, सकार, मंजूरी, मानना प्रतिग्रहण ।
 Acceptance for registration—रजिस्ट्री के लिए स्वीकृति, पंजीयन के लिये स्वीकृति ।
 Access—पहुँच, प्रवेश, अभिगम ।
 Accessory—(n.) उपसाधन, उपांग; (adj.) अतिरिक्त, सहायक, उपसाधक, उपसहायक ।
 Accident—दुर्घटना, संयोग ।
 Accident report—दुर्घटना सम्वाद ।
 Accommodate—स्थान देना, जगह देना, निवाहना ।
 Accommodation—सुविधा, स्थान, जगह, घर, मेल-मिलाप (reconciliation), निवाह, समायोजन

Accommodation work—निवास निर्माण कार्य ।
 Accompanied by—के साथ, सहित ।
 Accompanying—साथ का ।
 Accord—(n.) सहमति, अभिसंधि, ऐकमत्य; (v.) देना, प्रदान करना, मेल खाना, अनुरूप होना, सहमति देना ।
 Accord sanction—स्वीकृति देना ।
 Account—खाता, विवरण, वृत्तांत, लेखा, हिसाब, गणना ।
 Accountant—लेखाकार ।
 Accountant clerk—लेखाकार लिपिक ।
 Accountant General—महालेखाकार ।
 Accounting & disposal of Government Estates—राजकीय सम्पत्ति का लेखा-जोखा ।
 Accoutrement—साज-सामान ।
 Accrual increment—प्रोद्भूत वेतन वृद्धि ।
 Accuracy—यथार्थता, परिशुद्धता ।
 Accurate—यथार्थ, सही, ठीक, विशुद्ध, परिशुद्ध ।
 Accurately—ठीक-ठीक ।
 Accusation—दोषारोपण, अभियोजन, अभियोग ।
 Accused—अभियुक्त ।
 Acidity—अम्लता ।
 Acknowledge—स्वीकार करना, प्राप्ति सूचना या पावती भेजना, मानना, कबूलना, पावती देना, रसीद देना ।
 Acknowledgement—रसीद, पावती, प्राप्ति-सूचना, स्वीकृति, स्वीकरण, बामारोक्ति ।
 Acknowledgement of consideration made before a registering officer—प्रतिफल की प्राप्ति-स्वीकृति जो पंजीयन अधिकारी के सामने किया जाय ।
 Acknowledgement due—ज्यादी, पावती ।

Acknowledgement of liability— दायित्व स्वीकरण ।	Additional Assistant Research Officer—अतिरिक्त या अपर सहायक अन्वेषण अधिकारी ।	Administrative Authority—प्रशास- कीय अधिकारी ।
“A” Class allowance—“अ” श्रेणी का भत्ता ।	Additional Deputy Secretary— अतिरिक्त या अपर प्रतिमंत्री ।	Administrative Board—प्रशासकीय परिषद् ।
A copy of the court's order passed in the marginal note of a case—मुकदमे में अदालत का जो उपान्तर अंकित आदेश हुआ है उसकी एक नकल या प्रतिलिपि ।	Additional District Magistrate— अतिरिक्त या अपर जिला मजिस्ट्रेट ।	Administrative charge—प्रशासकीय कार्यभार, प्रशासन-भार ।
Acoustics—ध्वनिकी, श्रवण-गुण विज्ञान ।	Additional entry—अतिरिक्त प्रविष्टि ।	Administrative Control—प्रशासकीय नियंत्रण ।
Acquaintance—परिचय ।	Additional fees—अतिरिक्त शुल्क ।	Administrative Department— प्रशासकीय या प्रशासनिक विभाग ।
Acquire—अध्याप्त करना, ले लेना, अर्जित या अर्जन करना ।	Additional grant—अतिरिक्त अनुदान ।	Administrative Policy—प्रशासकीय या प्रशासनिक नीति ।
Acquisition—अभिग्रहण, अवाप्ति, अर्जन ।	Additional Judge—अतिरिक्त या अपर न्यायाधीश, अपर जज ।	Administrative quarters—बड़े अफ- सरों के बंगले ।
Acquisition of land—भूमि अर्जन ।	Additional pay—अतिरिक्त वेतन ।	Administrative report—प्रशासकीय सम्वाद ।
Acquisition or leasing—अवाप्ति या पट्टा ।	Additional police—अतिरिक्त पुलिस ।	Administrative sanction—प्रशास- कीय स्वीकृति या मंजूरी ।
Acquit—(as distinguished from discharge)—विमुक्त करना, छोड़ देना ।	Additional Police-Tax—अतिरिक्त पुलिस कर ।	Administrator—प्रशासक ।
Acquittal—विमुक्ति, विमोचन ।	Additional remuneration of extra work—अधिक काम के लिए अति- रिक्त पारिश्रमिक ।	Administrator General—महा प्रशा- सक ।
Acquittance Roll—निष्क्रय वर्ति, वेतन या पगार चिट्ठा, कब्जल वसूल ।	Address—पता, सरनामा, संबोधन, संभाषण, अभिभाषण ।	Admissibility in evidence—साक्ष्य में ग्राह्यता, साक्ष्य में मान्यता या स्वीकार्यता ।
Acquitted—विमुक्त ।	Address (To present an)—अभि- नन्दन पत्र देना ।	Admissibility of leave—छुट्टी का मिल सकना, छुट्टी की नियमानुकूलता ।
Acreage—क्षेत्रफल, रकबा ।	Adequate—पर्याप्त, काफी, समुचित ।	Admissible—ग्राह्य, स्वीकार्य ।
Act—कार्य, कर्म, काम, कृत्य, अधि- नियम, अंक ।	Adhering to—दर कायम रहते हुए ।	Admission—प्रवेश, दाखिला, स्वीकृति, मानना ।
Acting allowance—कार्यवाहक भत्ता ।	Adhesion—अभिलाग, आसंजन ।	Admission Board—प्रवेश परिषद् ।
Acting appointment—कार्यवाहक नियुक्ति ।	Adhesive stamp—चिपकनेवाला न्या- यालय फीस मुद्रांक या टिकट ।	Admission card—प्रवेशपत्रक ।
Actinomyces—कठजीमी ।	Ad hoc—तदर्थ ।	Admission of College (to pri- vileges of)—के विशेषाधिकारों के लिए कालेजों का स्वीकृत किया जाना ।
Action—क्रिया, कार्य, काररवाई ।	Ad hoc Committee—तदर्थ समिति ।	Admission of insttument—करण- पत्रों का ग्राह्य किया जाना ।
Active service—सक्रिय नौकरी, सक्रिय सेवा, सामरिक सेवा ।	Adjacent—आसन्न, समीपस्थ, सटा हुआ ।	Admission Register—प्रवेशपंजी, दाखिला रजिस्टर ।
Activity—क्रिया, कार्यशीलता, सक्रियता, चेष्टा, कार्यकलाप, हलचल, सरगर्मी ।	Adjudication—न्याय या न्यायिक निर्णय, अधिनिर्णयन ।	Admission of students—छात्रों का प्रवेश, विद्यार्थी प्रवेश ।
Actual—वास्तविक, असली ।	Adjustment—समंजन, समायोजन, बैठ-बिठाव ।	Admit—दाखिल करना, भर्ती करना, स्वीकार करना, ग्रहण करना ।
Actual travelling allowance— वास्तविक यात्रा-भत्ता व्यय ।	Adjustment of central transac- tion—केन्द्रीय लेनदेनों का समंजन ।	Admitted to hearing—सुनवाई के लिये स्वीकृत ।
Actual travelling expenses—वास्त- विक यात्रा-व्यय ।	Adjutant—एजुटेन्ट ।	Admonitions—डॉट फटकार, मत्सना ।
Acute Angle—न्यून कोण ।	Administration, (letter of)—प्रबन्ध पत्र, प्रशासन पत्र ।	Adolescent—किशोर ।
Adaptation—अनुकूलन, अभ्यनुकूलन, रूपांतर, रूपांतरण ।	Administration Board—प्रशासन परिषद् ।	Adopt—ग्रहण करना, धारण करना ।
Addendum—अनुबंध, परिशिष्ट ।	Administration of execution— निष्पादन का स्वीकार किया जाना ।	Adopt—अपनाना, मान लेना, अंगीकार करना, दत्तक ग्रहण करना, गोद लेना ।
Addition—योग, जोड़, अधिकत्व ।	Administrative—प्रशासनिक, प्रशास- कीय, प्रशासन-संबंधी ।	Adoption—दत्तक ग्रहण, गोद लेना ।
Addition and alteration—परिवर्धन और परिवर्तन, बढ़ाव और वदलाव ।	Administrative Account—प्रशास- कीय या प्रशासनिक लेखा ।	
Additional—अतिरिक्त, अपर ।	Administrative approval—प्रशास- कीय अनुमोदन ।	

Adoption deed—दत्तक-पत्र, गोदनामा ।	Affirmation—अभिवचन, प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञापन ।	Air gun—विमान-तोप ।
Adult education—प्रौढ़ शिक्षा ।	Afflux—चढ़ाव (पानी का) ।	Alcove—वाहिका, आला ।
Adult school—प्रौढ़ पाठशाला ।	Aforesaid—उपर्युक्त, पूर्वोक्त ।	Alienation—अलग करण, हस्तान्तरण, अपवर्तन, स्वत्वार्पण अन्य-संक्रामण, अपहरण ।
Adult women school—प्रौढ़ महिला पाठशाला ।	Afrah—अफरा (रोग) ।	Aliens Branch—विदेशी शाखा ।
Adulteration—मिलावट, अपमिश्रण ।	Afternoon—तीसरे पहर, अपराह्न ।	Alignment—संरेखण, मार्ग-रेखा निर्धारण, सीध, निर्धारित सीध ।
Adumbrate—छायांकित, छायामात्र, दिखाया हुआ ।	Age—वयस, अवस्था, वय, उम्र, काल, युग ।	Alimony—निर्वाह धन, संभूति, निर्वाह व्यय ।
Ad valorem—मूल्यानुसार, यथामूल्य ।	Age limit—उम्र की कैद, वय सीमा, वयस्सीमा, आयु सीमा ।	Allegation—अभिकथन, आरोप, इलजाम ।
Ad valorem scale—क्रमसूची, मूल्यानुसार ।	Agency, (Central India)—मध्यभारत एजेंसी ।	All India Radio—आकाशवाणी ।
Advance—अग्रिम, पेशगी, अग्रगति, उन्नति ।	Agency Police—एजेंसी पुलिस ।	Allocation—वंटवारा, वांट, विनियान ।
Advance increment—अग्रिम वेतन-वृद्धि ।	Agency—कार्यावली, कार्य सूची ।	Allocation of funds—रूपये का वंटवारा ।
Advance payment—पेशगी भुगतान, अग्रिम भुगतान ।	Age-entry—आयु लिखन, उम्र का इन्दराज ।	Allot—नियत करना, वांटना ।
Adverse possession—विरुद्धाधिकार, प्रतिकूल कब्जा ।	Agent—अभिकर्ता, आढ़तिया, कारक, कर्ता ।	Allotment—नियतन, वांट, वंटन ।
Advertise—विज्ञापन करना, विज्ञापन देना ।	Aggregate—सकल, कुल, सब, तमाम, समूह, पूर्ण योग, जोड़, सम्पूर्ण, समाहार, समुच्चय, समुदाय ।	Allotment of houses—मकानों का दिया जाना ।
Advertisement—विज्ञापन, इशतहार ।	Aggregating—कुल मिलाकर, सब मिलाकर ।	Allotment of land—भूमि का नियतन ।
Advice—सूचना, परामर्श, मंत्रणा, सलाह ।	Agitation—हलचल, आन्दोलन ।	Allotment of Residence—आवास-गृह का नियतन ।
Advice of credit transfer—नामे संक्रम सूचना ।	Agree—सहमत होना, राजी होना, करार करना ।	Allow—अनुज्ञा करना, स्वीकार करना, इजाजत देना ।
Advice of debit transfer—जमा संक्रम सूचना ।	Agreed upon—सहमत, रजामन्द, तैयार ।	Allowance—भत्ता ।
Advisable—उचित, मुनासिब, समुचित ।	Agreement—समझौता, अहदवंदी ।	Allowance and Honoraria—भत्ते और मतदेय ।
Advisory—परामर्शदात्री, सलाहकार ।	Agreement—करार, सहमति, रजामंदी, कती, अन्वय ।	Allowance to an ex-proprietor—साकितुल मिल्कियत अनामी (tenant) को भत्ता ।
Advisory Committee—सलाहकार समिति, परामर्शदात्री समिति ।	Agreement for service—सेवा करार या इकरारनामा ।	Alluvial—जलोढ ।
Advisory Officer—सलाहकार अफसर, मंत्रणा अधिकारी ।	Agreement of lease—पट्टा देने का इकरारनामा या नियम पत्र ।	Alluvion—कछार, कछारी भूमि, जनोढक ।
Advocate—अधिवक्ता ।	Agricultural—कृषि विषयक, खेती का, कृषि-संबंधी ।	Almirah—अनमारी ।
Advocate General—महा अधिवक्ता ।	Agricultural implements—कृषि उपकरण, खेती के औजार ।	Alphabetic order—वर्णानुक्रमिक ।
Aerial—एरियल ।	Agricultural Inspector—कृषि निरीक्षक, खेती परिदर्शक ।	Alter—परिवर्तन करना ।
Aerial lines—हवाई लाइनें, हवाई तार ।	Agricultural lease—कृषि पट्टा ।	Alteration—अदल-बदल, तबदीली, परिवर्तन, बदलाना ।
A few showers occurred in the east U. P.—उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कुछ हलके छोटे पड़े ।	Agricultural Machinery—कृषि यन्त्र ।	Alternative—वैकल्पिक ।
Affect—प्रभावित करना, असर डालना, प्रभाव पड़ना ।	Agricultural purposes—कृषि प्रयोजन, खेती के प्रयोजनीय ।	Amalgamation—एकीकरण, ममामेलन, संकरण, पानुमिश्रण ।
Affected—प्रभावित, (रोग) ग्रस्त, ग्रस्त ।	Agriculturists Loans Act—कृषि-कर्ज अधिनियम ।	Ambiguous—मदुग्ध, हफसंग, गोंन नान, अस्पष्ट, अनेकार्थ (७) ।
Affidavit—शपथपत्र, हनकनामा ।	Aided—महायन्त्र-प्राप्त ।	Amend—संशोधन करना ।
Affiliation—सम्बन्ध, संबंधन, संबद्धता ।	Aided school—महायन्त्र प्राप्त स्कूल या पाठशाला ।	Amended from time to time—समय समय पर संशोधित ।
Affinity, Chemical—रानायनिक संबंधत्व ।		Amendment—संशोधन ।
Affirm—प्रतिज्ञा करना, इशतना मे कहना, प्रतिज्ञान करना, पुष्टि करना ।		Amendment Act—संशोधन का संशोधन विधान ।

Ammunition Pouch—गोला - बारूद की थैली ।	Annual reports—वार्षिक विवरण, सालाना सम्वाद ।	Appeals against the order of—की आज्ञा के विरुद्ध अपील ।
Amnesty—राजक्षमा, सर्वक्षमा, क्षमादान, निर्मुक्ति ।	Annual reports on establishment—स्थापना की वार्षिक विवरण ।	Appearance—उपस्थिति, मौजूदगी, हाजिरी, पेशी, दर्शन, आभास, प्रतीति, रूप ।
Amortization—परिशोधन ।	Annual review—वार्षिक समीक्षा ।	Appearance slip—हाजिरी अदालत का परचा, न्यायालय उपस्थिति पत्रक ।
Amount—घनराशि, रकम, मिश्रघन ।	Annual statement—वार्षिक विवरण, सालाना नक्शा ।	Appellant—अपीलकर्ता, अपीलार्थी ।
Amount, (estimated for recovery)—परिग्रहणार्थ कृती हुई घनराशि ।	Annuity—वार्षिक वृत्ति, वार्षिकी ।	Appellate authority—अपीलीय अधिकारी ।
Ampere—ऐंपियर ।	Annuity Bond—वार्षिक वृत्ति या वार्षिकी प्रतिज्ञा-पत्र ।	Appellate Court—अपीली न्यायालय ।
Amphistomous—द्विमुखी कृमि ।	Annulled—रद्द किया हुआ, निराकरण किया हुआ ।	Appellate jurisdiction—अपीली अधिकार क्षेत्र ।
Anachronism—काल-दोष ।	Annulment of settlement—भू-व्यवस्था को रद्द करना ।	Appellate powers—अपीली अधिकार ।
Analogous—एकरूप, सदृश, समवृत्ति, अनुरूप ।	Anomalous—असंगत, अनियमित ।	Appellation—अभियान ।
Analysis—विश्लेषण ।	Anomaly—असंगति, अनियमितता ।	Appended—संलग्न, नत्थी किया हुआ ।
Analysis of rate—महसूलों का विश्लेषण ।	Anonymous—गुमनाम, नाम-रहित ।	Appendices—अनुबंध-।
Analyst—विश्लेषक ।	Answer Book—कापी, परीक्षा की कापी, इम्तिहान की कापी, उत्तर पुस्तक ।	Appendices to budget estimates—बजट का तखमीना अनुबंध ।
Ancestral property—पैतृक सम्पत्ति ।	Ante—पूर्व ।	Appendix—परिशिष्ट, अनुबंध ।
Anchor—लंगर ।	Anthrax—गिल्टी रोग ।	Appertaining to—सम्बन्ध रखनेवाला, से सम्बद्ध, से संसक्त ।
Anchor bolt—लंगर का बल्ला ।	Anticipated—प्रत्याशित, पूर्व - अनुमानित ।	Appliance—साधन, साधित्र ।
Angle of inclination—नतिकोण ।	Anticipated excess—प्रत्याशित व्यय-वृद्धि ।	Applicability—प्रयोज्यता ।
Animal husbandry—पशुपालन ।	Anticipated saving—प्रत्याशित बचत ।	Applicant—प्रार्थी, आवेदक ।
Ankle—टखना ।	Anticipation—प्रत्याशा ।	Application—प्रार्थनापत्र, आवेदन, पत्र, अर्जी ।
Annexed—नत्थी किया हुआ, मिलाया हुआ ।	Anticipatory—प्रत्याशी ।	Application for alienation—हस्तान्तरण का प्रार्थनापत्र ।
Annexure—अनुबंध, अनुलग्नक ।	Anticipatory pension—प्रत्याशी पेंशन, प्रत्याशी निवृत्ति-वेतन ।	Apply—लागू होना, लागू करना, प्रयोग करना, आवेदन करना ।
Annotated—टीका सहित ।	Antidote—विषघ्न, प्रतिकारक ।	Appointment—नियुक्ति ।
Announce—घोषणा करना, ख्यापन करना, ऐलान करना, आख्यापन या आख्यापित करना ।	Anti-inflationary—मुद्रास्फीति निवारक ।	Appointment of Commission—आयोग की नियुक्ति ।
Annual—वार्षिक, सालाना ।	Antiquities—पुरावशेष, प्राचीन अवशेष ।	Appointment of Commission—आयोग की नियुक्ति ।
Annual accounts—वार्षिक हिसाब या लेखा ।	Antiquity—प्राचीन काल, पुरातत्व, पुरावशेष ।	Appointment department—नियुक्ति विभाग ।
Annual Administration Report—वार्षिक प्रशासन विवरण, प्रशासन का वार्षिक सम्वाद ।	Anti-Rabic—प्रत्यात्पक ।	Appointment of power—अधिकार के निष्पादन में नियुक्ति ।
Annual Administrative Report—वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट ।	Antiseptic fluid—पूतिदोषरोधी द्रव ।	Appraisal—मूल्य-निर्धारण, मूल्यांकन, कृतना, आंकना ।
Annual entry in character roll—चरित्रवर्ति में वार्षिक प्रविष्टि, अमलनामे में सालाना इन्दराज ।	Apathy—उदासीनता ।	Appreciation—मूल्य - वृद्धि, गुण-दोष विवेचन, रसग्रहण ।
Annual indents—वार्षिक माँगपत्र ।	Aperture—सूराख, छेद, छिद्र, द्वारक ।	Apprentice—शिक्षु, शागिर्द, प्रशिक्षु ।
Annual increment—वार्षिक वृद्धि ।	Apex—सिरा, चोटी, शिखर, शिखाग्र, शिरोविंदु ।	Apprentice supervisors—प्रशिक्षु पर्यवेक्षक ।
Annual Memorandum—वार्षिक स्मृति-पत्र ।	Apology—माफी माँगना, क्षमा याचना ।	Appropriate class—समुचित वर्ग ।
Annual repair estimate—वार्षिक मरम्मत का तखमीना ।	Apparatus—यन्त्र, उपकरण ।	Appropriate stamp prescribed or indicated—नियत किया हुआ या बताया हुआ स्टाम्प, समुचित स्टाम्प ।
Annual repairs to roads, building & culverts—सड़कों, इमारतों और पुलियों की वार्षिक मरम्मत ।	Apparent—आभासी, भासमान, दृष्ट, प्रत्यक्ष ।	Appropriation—विनियोग, विनियोजन ।
	Appeal—अपील ।	
	Appeals against assessment of Municipal taxes—म्युनिसिपल करों के निर्धारण के विरुद्ध अपील ।	

Assistant teacher—सहायक अध्यापक ।
 Association—संस्था, समाज, साहचर्य, संयोजन ।
 Assumed rent—माना हुआ या कल्पित लगान ।
 Assumption of charge—कार्यभार ग्रहण ।
 Assumption of charge (of duties)—कार्यभार ग्रहण ।
 Assurance—आश्वासन, वचन देना, बीमा ।
 Asterisk—तारक-चिह्न, तारे का निशान ।
 As usual—साधारणतया ।
 At a discount—बट्टे पर, बट्टे से ।
 Athletic—खेलकूद-सम्बन्धी, व्यायाम-विषयक ।
 At once—तुरन्त, सद्य ।
 At a premium—बढ़ती पर, बढ़ती से ।
 Attached Estates—संलग्न रियासतें, कुर्क की हुई संपत्ति ।
 Attached to or with—साथ अनुलग्न ।
 Attachment—आसंग, कुड़की ।
 Attachment of salary—वेतन की कुड़की ।
 Attendance—उपस्थिति ।
 Attendance Grant—उपस्थिति अनुदान ।
 Attendance Register—उपस्थिति रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका ।
 Attendant—परिचर, परिचारक, अनुवर्ती, सेवक ।
 Attest—प्रमाणित करना, साक्ष्यकन करना, तस्दीक करना ।
 Attestation—साक्ष्यकन, प्रमाणीकरण, तस्दीक ।
 Attested—प्रमाणित, साक्ष्यकित, तस्दीक किया हुआ ।
 Attesting witness—साक्ष्यकन करने वाला गवाह या साक्षी, तस्दीक गवाह ।
 Attorney—न्यायवादी, अभिवक्ता ।
 At your earliest convenience—यथाशीघ्र ।
 Auction—नीलाम, प्रतिक्रोश ।
 Audit—लेखा-परीक्षा, अंकेक्षण ।
 Audit and Inspection Note—लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण टिप्पणी, आडिट तथा निरीक्षण नोट ।
 Audit Note—लेखा-परीक्षा टीप, लेखा-वदी परीक्षा टिप्पणी ।
 Audit objections—लेखा-परीक्षा आपत्तियाँ, आडिट की आपत्तियाँ ।

Audit Officer—लेखा-परीक्षा अधिकारी ।
 Audited Accounts—जाँचे हुए लेखे, जाँचे हुए हिसाब, आडिट किये हुए लेखे या हिसाब ।
 Auditor—लेखा-परीक्षक, अंकेक्षक ।
 Auditorium—समा-भवन, दर्शककक्ष ।
 Auger—वरमा, गिलमिट ।
 Aural education—कर्ण-शिक्षा, श्रवण-शिक्षा ।
 Authentic—विश्वस्त, प्रामाणिक ।
 Authentication—प्रमाणीकरण ।
 Authentication of powers of attorney—प्रतिनिधि-पत्र का प्रमाणीकरण या तस्दीक ।
 Authorities—प्राधिकारीवर्ग ।
 Authorities to adopt—दत्तक-ग्रहण के अधिकार-पत्र, गोद लेने के अधिकार-पत्र ।
 Authority—सत्ता, प्राधिकार, अधिकार, हैसियत, प्राधिकारी, अधिकारी ।
 Authority affording technical sanction to estimate—तखमीने की जावते की स्वीकृति देनेवाले प्राधिकारी ।
 Authorization—आदेश, अनुज्ञा, इजाजत ।
 Authorize—अधिकार या प्राधिकार देना ।
 Authorized agent—अधिकृत या प्राधिकृत एजेंट या अमिकर्ता, अधिकार-प्राप्त एजेंट ।
 Authorized discharge—प्राधिकृत निकासी, अधिकृत निकासी ।
 Automatic gates—स्वतः चल फाटक ।
 Automatically—आप ही आप, स्वतः ।
 Available—प्राप्य, उपलब्ध ।
 Avenue—मार्ग, तस्वीथि ।
 Average—औसत, माध्य, सामान्य ।
 Average anna condition—आनों में फसल की हालत ।
 Average cost—औसत लागत ।
 Average day and night temperature—दिन और रात का औसत तापमान ।
 Average pay—औसत वेतन ।
 Average salary—औसत वेतन ।
 Avian tuberculin test—पक्षियों की यक्ष्मा परीक्षा ।
 Await—प्रतीक्षा करना ।
 Await or suspend—प्रतीक्षा करना या स्थगित करना ।
 Award—पंचनामा, पंचाट, इनाम, पारितोषिक ।

Axis—अक्ष, धुरी ।
 Axis of a cone—शंकु-अक्ष ।
 Axis of a cylinder—बेलन-अक्ष ।
 Axis of circle or sphere—वृत्त या गोल का अक्ष ।
 Axis of a rotation—घूर्णाक्ष ।
 Axles—धुरा, धुरी ।

B

Background—पृष्ठभूमि, पृष्ठाधार ।
 Bacteria—जीवाणु ।
 Badges—बिल्ला, बेंज ।
 Baggage allowance—सामान भत्ता ।
 Bail—प्रतिभूति, जमानत, जामिन, प्रतिभू, उपनिधि ।
 Bail bonds—प्रतिभूपत्र, जमानत-पत्र ।
 ailable—जमानत योग्य, जमानती, प्रतिभाव्य ।
 Bailment—निक्षेपण, उपनिधान ।
 Balance—संतुलन, तराजू, शेष ।
 Balance (Cash)—रोकड़ बाकी ।
 Balance Sheet—लेन-देन का चिट्ठा ।
 Balcony—बारजा, वरामदा, छज्जा ।
 Ballast—गिट्टी ।
 Balled Ammunition—गोली ।
 Balustrade—कटधरा, जंगला, वेदिका ।
 Ban—रोक, प्रतिबंध, निषेध ।
 Band—बैन्ड, पट्टी, बंधन ।
 Bandolier—बंदोलिया, कारतूस रखने की खानेदार पेटी ।
 Bank—तट, कोठी, घनागार, बैंक, अधिकोश ।
 Bank-Canal—नहर की पटरी ।
 Bank draft—बैंक की हुंडी ।
 Banquet hall—भोज या दावत-भवन ।
 Bar—रूकावट, रोक, अर्गल, छड़, दंड, रोथिका, बाघा ।
 Barbed wire—कँटीला तार ।
 Bar-fetters—डंडा, बड़ी ।
 Barge—बोजा होनेवाली नाव (Cargo boat), वजड़ा (Pleasure boat) ।
 Barn—खलिहान, खता ।
 Barometer—वायुदावमापी ।
 Barrack—बैरक, बारिक ।
 Barred by limitation—अवधि-बाधित, काल-बाधित ।
 Barrage—बाँध ।
 Barren—ऊसर, वंजर, बन्व्या ।
 Barret—बैरेट, टोपी ।
 Barrister—बैरिस्टर, विधिवक्ता ।
 Barrow—हाथगाड़ी, ठेला ।

Base line—आधार रेखा ।	Beyond time—समय के पश्चात् ।	Book (v.)—बुक करना ।
Basement—तहखाना ।	Bib cock—टोंटी ।	Book transfer—टीपांतरण, खातांतरण
Base plate—आधार-पट्टिका, आधार-पट्टी ।	Biennial—द्वैवार्षिक, द्विवर्षजीवी, दिवर्षी, दोसाला ।	Book value—बही मूल्य ।
Batch—जत्था, दल ।	Bifurcation—द्विशाखन ।	Booking—बुकिंग ।
Bath—स्नान, कुंड ।	Bill—बिल, पुरजा, हिसाब का पर्चा, विधेयक ।	Boring—वेध, वेधन, नोरस ।
Bathe—स्नान करना, नहाना ।	Bill of exchange—हुंडी ।	Borrower—ऋणकर्ता ।
Bath tube—स्नान कुंड ।	Bill of lading—वहन-पत्र, लदान-पत्र, बिल्टी ।	Bottle—बोतल ।
Baton—डंडा ।	Bill of quantities—राशि-सूची ।	Bottomry bond—पोतबंध ।
Battalion—बटालियन, वाहिनी ।	Bit, Bit head, Bit reins—लगाम, दहाना, कजलगाम ।	Boulders—गोला पत्थर, गोलाशय ।
Batten—डंडा, पट्टी, हत्था ।	Binder—बाँधनेवाला, बन्धकी ।	Boundary—सीमा, हद्द, सीमांत ।
Batter—ढहाना, गिराना, तोड़ना, चकना-चूर करना ।	Binding Material—जोड़नेवाली वस्तु ।	Boundary wall—चहारदीवारी, घेरा ।
Bay—खंड, खाड़ी, आला ।	Bitumen—डामर ।	Box—संदूक, पेटी ।
Bayonets—संगीन, किरच ।	Bituminous Cement—डामर मिश्रित सीमेंट ।	Boxwood—बक्स वृक्ष की लकड़ी ।
Bay window—निकली खिड़की ।	Black quarter—जहरबाद, लंगड़ी ।	Brace—पिस्तौल की पेटी, परतला, बंधनी, घनुबंधनी ।
Beam—धरनी, धरन, कड़ी, शहतीर ।	Blacksmith—लोहार ।	Braces—गैलिस ।
Bearing (direction)—दिशा, रुख, दिक्-स्थिति, दिङ्मान ।	Black book—कोरा रजिस्टर ।	Brackets—कोष्ठक, बंधनी, कोहनी ।
Bearing (post)—बैरंग ।	Blanket—कम्बल ।	Brake speed—रुद्ध गति ।
Beat (v.)—मारना, पीटना ।	Blanket-coat—कम्बल कोट ।	Branch—शाखा ।
Beat—हलका, इलाका ।	Blasting—विस्फोटन ।	Branch depots—ब्रांच डिपो, शाखा कोठार ।
Beat of the gong—घंटे-घड़ियाल की चोट ।	Bleach—विरंजित करना ।	Branching—शाखायें फूटना, शाखा-विन्यास ।
Bed—खाट, शय्या, तल, तह, संस्तर, क्यारी ।	Blight—तुषार, चित्ती ।	Brand—दाग, दागना ।
Bedding—बिस्तरा, संस्तरण ।	Blind—परदा, झिलमिली ।	Brass scale—पीतल का पैमाना ।
Bed level—तह का स्तर ।	Blotter—चूसक, सोखता ।	Breach—दरार, भंग, विच्छेद ।
Bed of river—नदी की तलहटी ।	Blouse—ग्लाउज, कुर्ती ।	Breach of canals—नहर भंग ।
Bed plate—तल पट्टिका, तल-पट्टी, आधार-पट्ट ।	Bludgeon—सोंटा, डंडा ।	Breach of law—विधि भंग, अनुशासन भंग ।
Bedstead—खाट ।	Blue fringe—नीली झालर ।	Breach of prison-discipline—कारा-अनुशासन भंग ।
Behaviour—आचरण, बरताव, व्यवहार ।	Blue vitriol—नीला थोथा, तूतिया ।	Breach of rule—नियम भंग, नियम-उल्लंघन ।
Belief—विश्वास ।	Board—पट्ट, तख्ता, पाट, फलक, खान-पान, परिषद् ।	Breach of Trust—विश्वास भंग, न्यास भंग ।
Bell—घंटी, घंटा ।	Board of Revenue—राजस्व-मंडल ।	Breadth—चौड़ाई ।
Bellows—घोंकनी, भाथी ।	Boat—नाव ।	Breakdown—भंग, खराबी, टूट-फूट, विभंग ।
Below par—प्रत्यक्ष मूल्य से नीचे, अवमूल्य पर ।	Boatman—मल्लाह ।	Break out—प्रारम्भ होना ।
Belt—पेटी, पट्टा, इलाका, कटिबंध, क्षेत्र ।	Bodily infirmity—शारीरिक दुर्बलता ।	Break of service—नौकरी का क्रम-भंग
Bench—पीठ, कक्ष, न्यायपीठ, न्यायसभा, न्यायाधीशवर्ग ।	Boiler—वाष्पित्र ।	Breakwater—पनकट, तरंगरोध ।
Bench mark—तल-चिह्न, स्तरांक ।	Boiler-house-attendant—वाष्पित्र गृह परिचर ।	Breast wall—आवक्ष, मिति ।
Bench of High Court Judges—न्यायाधीशगण ।	Boiling point—ब्वथनांक ।	Breeches—विरजित ।
Bench of Honorary Magistrates—अवैतनिक न्यायाधीशों की न्यायसभा ।	Bolt—अंगल, सिटकनी, चटखनी ।	Brick—ईंट ।
Bend—मोड़ ।	Bonafide—असली, सच्चा, प्रामाणिक, वास्तविक, सद्भावपूर्ण, विश्वस्त, सदा-शयी ।	Brick-work—ईंट-चिनाई ।
Bending movement—नमन-घूर्ण ।	Bond—बाँड, तमस्सुक, बंध, बंध-पत्र, ऋण-पत्र ।	Bridge—पुल ।
Benevolent funds—हितकारी निधि ।	Bond of indemnity—क्षतिपूर्ति बंध-पत्र ।	Bridle—लगाम ।
Berth—बर्थ, शायिका, नौशय्या ।	Bond stress—जुड़ने की शक्ति ।	Bridle path—अश्वपथ ।
Besides—अलावा, अतिरिक्त ।		Bridoon reins—कजलगाम, रिसाले की लगाम ।
Between—बीच, मध्य ।		

Broadcast rice—छींटा हुआ धान ।
 Buck ammunition—द्वर्रा ।
 Bucket—डोल, वाट्टी ।
 Buckle—बकसुआ, बकलस ।
 Budget—बजट, आय-व्ययक ।
 Budget allotment—बजट-नियतन ।
 Budget estimate—बजट अनुमान ।
 Budget Expenditure—बजट व्यय ।
 Budget grant—बजट अनुदान ।
 Budget head—बजट शीर्षक ।
 Budgeting—रुपया बजट किया जाना ।
 Budget provision—बजट व्यवस्था ।
 Budget session—बजट अधिवेशन ।
 Bugle—विगल, विगुल ।
 Bugler—विगुल बजानेवाला, विगुलर ।
 Building—भवन, इमारत ।
 Building and Road Branch—भवन और सड़क विभाग ।
 Bulk—ढेर, अंवार ।
 Bulk head—विमानभीत, पोतभीत ।
 Bullet—गोली ।
 Bullet proof—गोलीसह ।
 Bulletin—बुलेटिन, विज्ञप्ति ।
 Bullion—सोना-चाँदी ।
 Bully—गुंडा ।
 Bundle lifter—बस्ता उठानेवाला ।
 Bunds—बंद, बाँव ।
 Bungalow, Inspection—डक बँगला ।
 Bureau—कार्यालय, व्यूरो ।
 Burglar alarm—चोर-घंटी ।
 Burglary—सैंव लगाना, नकबजनी ।
 Burial—दफन, गवाधान ।
 Business—कार्य, काम, व्यापार, कारो-
 वार, व्यवसाय ।
 Butter-like—मकखन जैसा ।
 Butt joint—सपाट जोड़ ।
 Buttress—पुश्ताटेक, सहारा ।
 By-Law—उपनियम ।
 By order—की आज्ञा से, के आदेश से ।

C

Cable—तार, समुद्री तार ।
 Cable jointer—कैबल संयोजक ।
 Cadet—कैडेट, सेनाछात्र ।
 Cadre—संवर्ग ।
 Cadre of Indian Service of Engineers—भारतीय इंजिनियरी सेवा का संवर्ग ।
 Cadre of U.P. Service of Engineers—उत्तर प्रदेशीय इंजिनियरी सेवा

का संवर्ग ।
 Calamity—आपदा, आपद् ।
 Calculate—गणना करना, परिकलन-
 करना, हिसाब लगाना ।
 Calculator—गणक, गणित्र ।
 Calendar month—पंचांग मास ।
 Calendar year—कैलेन्डर वर्ष, पंचांग
 वर्ष ।
 Caliber—व्यास, अंतर्व्यास, शक्ति,
 क्षमता ।
 Calling for the record—कागजात
 तलब करना ।
 Camber—कमानदार उभार, कैम्बर ।
 Campaign—मुहिम, अभियान ।
 Camp equipage—शिविर सामग्री ।
 Camp equipment—शिविर उपस्कर ।
 Camp Patrol—पड़ाव का पहरेदार ।
 Canal Act—नहर का कानून, केनाल
 एक्ट ।
 Canal & Forest Department of
 Provincial Government—प्रान्तीय
 सरकार का नहर तथा जंगलात विभाग ।
 Canal Produce—नहर की पैदावार ।
 Cancellation—मन-सूखी, विलोपन,
 निरसन ।
 Cancellation deed—निरसन-पत्र ।
 Cancelling officer—रद्द या खारिज
 करनेवाला अधिकारी ।
 Cancelled stamp—रद्द किये हुए स्टाम्प,
 निरसित मुद्रांक ।
 Candid—साफ, खरा, ऋजु, निष्कपट,
 स्पष्टवादी ।
 Candidate—उम्मीदवार, अभ्यर्थी ।
 Caning—चेंत-प्रहार ।
 Canopy—सायवान, वितान, मंडप, छेत्री ।
 Cantilever—बाहुघरन ।
 Cantonment Act—छावनी कानून ।
 Cantonment Agency—छावनी
 एजेंसी, छावनी अभिकर्तृत्व ।
 Canvas shoe—किरमिच का जूता ।
 Canvass—वोट माँगना ।
 Canvassing—पक्ष प्रचार, मतार्चन ।
 Capacity—क्षमता, सामर्थ्य, समाई,
 धारिता, हैसियत ।
 Capillary—केशिका ।
 Capillary attraction—केशिका-कर्षण ।
 Capital—पूँजी, मूल, मूलधन ।
 Capital and Revenue Accounts—
 पूँजी और राजस्व लेखा ।
 Capitalized—प्रंजीकृत ।

Capital outlay—पूँजीगत परिव्यय ।
 Capital punishment—प्राणदंड ।
 Capitation tax—प्रतिव्यक्ति प्रभार ।
 Cap of a well—कुएँ का चौखटा ।
 Capture—बंदीकरण ।
 Carbine bucket—कड़ावीन आधार ।
 Cardboard—दफती ।
 Care—देखरेख, परिचर्या ।
 Career—घुड़दौड़ का मैदान, दौर,
 जीवनक्रम, जीवनचर्या ।
 Careful—सावधान ।
 Care of—मार्फत, द्वारा ।
 Cargo—नौभार, माल ।
 Carpenter—बढ़ई, तिरखान ।
 Carriage of Government money—
 सरकारी रुपये का वहन ।
 Carriage of tools and plant—
 औजारों और स्थिर-यंत्रों की ढुलाई ।
 Cartage—ढुलाई, गाड़ी-भाड़ा ।
 Cartridge—कारतूस ।
 Casement—झरोखा, खिड़की, गवाक्ष,
 वातायन ।
 Cash—नकद, रोकड़, नकदी ।
 Cash book—रोकड़ बही ।
 Cash chest—नकदी बक्स ।
 Cashier—रोकड़िया, खजांची, रोकड़-
 पाल ।
 Cash memo—नकदी पुरजा, नकद
 पर्ची ।
 Cash outlay—नकदी लागत ।
 Cash rents—नकदी लगान ।
 Cast iron—ढला लोहा, कच्चा लोहा ।
 Castration—ब्रधियाकरण, अण्डोच्छेदन ।
 Casual—आकस्मिक, नमित्तिक, अनियत ।
 Casual leave—आकस्मिक या नैमित्तिक
 छुट्टी ।
 Casual leave register—आकस्मिक
 छुट्टी का रजिस्टर ।
 Casual vacancy—आकस्मिक रिक्ति ।
 Catalogue—सूची, सूची-पत्र ।
 Catalogue of Register Books—
 रजिस्ट्रों की सूची ।
 Catchment—स्रवण ।
 Catchment area—स्रवण क्षेत्र ।
 Category—श्रेणी, दर्जा, वर्ग, कोटि ।
 Cattle breeding Farm—पशुओं की
 नसलकशी का फार्म ।
 Cattle-killers—पशुवध-यंत्र ।
 Cattle pound—काजी हाउस, काजी
 हाँद, भवेशीखाना ।

Cattle, Prioplasmosis or (Red water)—लाल मूत्र रोग ।
 Cattle Theft Police—पशुहरण पुलिस, मवेशी चोर पुलिस ।
 Cause List—मुकद्दमों की सूची, वाद सूची ।
 Cause of Action—वादकारण, वाद हेतु ।
 Caution—सावधानी, सतर्कता ।
 Caveat—इत्तलानामा, उजरदारी, वारणी, आपत्ति-सूचना ।
 Cease—बंद होना ।
 Ceased—समाप्त, खत्म हुआ, अन्त हुआ ।
 Ceiling—भीतरी छत, छत, छतगिरी, तलंचा ।
 Celebration of literacy week—साक्षरता सप्ताह समारोह ।
 Cell—कोठरी, कोशिका, कोषाणु ।
 Cellular—कोष्ठीय, कोशिक ।
 Cement—सिमेंट ।
 Cemeteries—कब्रिस्तान ।
 Censure—निन्दा ।
 Census—जनगणना, मर्दमशुमारी ।
 Centage charges—सैकड़े पर खर्चा, सौ पर खर्चा ।
 Central areas—केन्द्रीय क्षेत्र ।
 Central board of Waqfs—केन्द्रीय वक्फ बोर्ड ।
 Central depot—केन्द्रीय कोठार ।
 Central Excise—केन्द्रीय उत्पादन कर ।
 Centralize—केन्द्रीयकरण ।
 Central Record Office—केन्द्रीय अभिलेखालय, केन्द्रीय मुहाफिजखाना ।
 Central Record Room—केन्द्रीय अभिलेखागार, मरकजी मुहाफिजखाना ।
 Central Revenue Stamps—केन्द्रीय राजस्व-स्टाम्प या मुद्रांक ।
 Central Road Development Fund—केन्द्रीय सड़क विकास कोष ।
 Central Stamp Store—केन्द्रीय स्टाम्प भंडार, केन्द्रीय मुद्रांक भंडार ।
 Centre of gravity—गुरुत्व-केन्द्र ।
 Centrifugal—अपकेंद्र ।
 Centrifugal pump—अपकेंद्री पम्प ।
 Centripetal—अभिकेंद्र ।
 Ceremony—संस्कार, अनुष्ठान ।
 Certificate—प्रमाणपत्र ।
 Certificate, medical—चिकित्सकीय प्रमाणपत्र ।

Certificate of fitness—आरोग्यपत्र ।
 Certificate of registration—रजिस्टरी का प्रमाण पत्र ।
 Certificate of Sale—विक्रय प्रमाण-पत्र ।
 Certification—प्रमाणन ।
 Certified—प्रमाणित ।
 Certified extract—प्रमाणित अवतरण, प्रमाणित उद्धरण, तस्दीक किया इन्तखाव ।
 Certify—प्रमाणित करना, तस्दीक करना ।
 Cess—उपकर ।
 Ceteris Paribus—अन्य बातें पूर्ववत् रहते हुए, अन्य बातें यथापूर्व रहते हुए ।
 Chain—जंजीर, शृंखला, जरीब ।
 Chain and arrows—जरीब और तीर ।
 Chair—पीठिका ।
 Chairman—सभापति, अध्यक्ष ।
 Chancellor—कुलपति ।
 Channel—जलमार्ग, जलांतराल, वाहिका ।
 Chaplain—पादरी, पुरोहित ।
 Chapter—अध्याय, परिच्छेद ।
 Character—चरित्र, सदाचार, स्वरूप, लक्षण, गुण-धर्म ।
 Character of rainfall—वर्षा का स्वरूप ।
 Character roll—चरित्रपंजी ।
 Charge—मूल्य, प्रभार, अभियोग, भार, रक्षण, आदेश, हमला, स्फोटक ।
 Chargeable—आदेय, आरोपणीय, प्रभारी ।
 Chargeable under—खर्च में, पड़ने योग्य, में व्ययनीय ।
 Charge certificate—कार्यभार प्रमाण-पत्र ।
 Charge of office—पदभार, पद का चार्ज ।
 Charge sheet—आरोप-पत्र, फर्द जुर्म ।
 Charitable—धर्मार्थ, खराती ।
 Charter Party—जहाज का किराया-नामा, नौ भाटक संविदा ।
 Chaufer—कोर मारना ।
 Check date—जांच की तारीख, पड़ताल की तारीख ।
 Checking of Accounts—हिसाब की जांच ।
 Check measurement—मापों की पड़ताल, मापों की जांच, नापों की जांच ।
 Check nut—रोक डिवरी ।
 Check of discount—बट्टे की जांच-पड़ताल ।
 Check of Stores—भंडार की जांच या पड़ताल ।

Chemical—रासायनिक ।
 Cheque—चेक, घनादेश ।
 Chest—छाती, सीना, पेटी, तिजोरी ।
 Chief Evacuee Welfare Officer—प्रधान निष्कान्तजन कल्याण अधिकारी ।
 Chief Controlling Revenue Authority—मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी ।
 Chief Inspector of Stamps—प्रधान स्टाम्प निरीक्षक ।
 Chief Justice—मुख्य न्यायाधीश ।
 Chief Secretary—मुख्य सचिव ।
 Chimney—चिमनी, घुआँकस, घुआँरा ।
 Cholera—हैजा, विषूचिका ।
 Chord—जीवा ।
 Chronological order—तैथिक क्रम ।
 Chronology—कालक्रम विज्ञान ।
 Cinema—सिनेमा, चलचित्र ।
 Cinematograph Act—चलचित्र ऐक्ट ।
 Circle—हल्का, मंडल, परिमंडल ।
 Circle—वृत्त, चक्र, घेरा ।
 Circle Inspector—हल्का निरीक्षक ।
 Circuit—सरकिट, परिपथ, परिधि ।
 Circuit House—सरकिट हाउस, विश्राम भवन ।
 Circular—परिपत्र, वर्तुल ।
 Circular order—गश्ती आज्ञा ।
 Circulars of the Board of Revenue in Department VII—सप्तम विभाग में राजस्व मंडल की गश्ती चिट्ठियाँ ।
 Circulate—घुमाना ।
 Circulation—प्रचार, परिचालन, परि-संचरण, परिवहन, संचार ।
 Circumlocution—व्यास-शैली, वाग्जाल ।
 Circumstance—परिस्थिति ।
 Circumstances, unavoidable—अनिवार्य परिस्थिति ।
 Circumstantial—परिस्थितिक ।
 Cistern—हौज, कुंड, टकी ।
 Citation—वाचन-पत्र, उद्धरण, आह्वान, उल्लेख ।
 City allowance—नगर भत्ता, सिटी भत्ता ।
 Civil Aviation Department—नागर विमान विभाग ।
 Civil employ—असैनिक नौकरी ।
 Civil employee—असैनिक कर्मचारी ।
 Civil Police—नागर पुलिस ।

Civil Procedure—दीवानी प्रक्रिया ।	Cock-bile—टोटी ।	Commend—सराहना, प्रशंसा करना, सिफारिश करना ।
Civil Service—लोक-सेवा ।	Cock-stop—टोटी (बढ़िया किस्म की) ।	Commentary—भाष्य, टीका ।
Civil Service Regulation—लोक-सेवा विनियम ।	Code—नियमावली, संहिता, कोड ।	Commentator—टीकाकार, वृत्तिकार ।
Civil Surgeon—सरकारी, शल्याकार ।	Code of Civil Procedure—दीवानी प्रक्रिया संहिता ।	Commercial—वाणिज्य सम्बन्धी, वाणिज्यिक ।
Claim—दावा ।	Code-word—कूट-शब्द ।	Commercial Department—वाणिज्य विभाग ।
Claimant—दावेदार, वादी ।	Codicil—क्रोड़-पत्र ।	Commercial Formaline—तिजारती एलकोहॉल ।
Claims—दावे ।	Co-efficient—गुणांक ।	Commission—कमीशन, आयोग, समिति ।
Claims inadmissible—अग्राह्य दावे ।	Coercion—बलप्रयोग, जबरदस्ती ।	Commissioner—कमिश्नर, आयुक्त ।
Claims of contractors—उकैदारों के दावे ।	Cognate—सजातीय, सगोत्र, एक ही कुल से संबंधित ।	Commission of inquiry—जाँच आयोग, जाँच कमीशन ।
Clamp—शिकंजा ।	Cognizable—प्रज्ञेय ।	Commissioner of Revenue—माल कमिश्नर, माल आयुक्त ।
Class—वर्ग, श्रेणी, दर्जा, कक्षा ।	Cognizable offence—प्रज्ञेय अपराध ।	Commit—सेशन सुपुर्द करना ।
Classification—वर्गीकरण ।	Cognizance—विचाराधिकार, विचारण, प्रज्ञान ।	Commitment—सुपुर्दगी, वचनबद्धता ।
Classification and Control of Appeal Rules—अपील के नियमों का वर्गीकरण तथा नियंत्रण ।	Cohesion—संसक्ति, संसंजन, संलाग, सम्बद्धता ।	Committal—सुपुर्दगी ।
Classified—वर्गीकृत ।	Coin—सिक्का, मुद्रा ।	Committee—समिति ।
Clause—खंड वाक्य ।	Coinage—टंकण, सिक्का-ढलाई ।	Committee of Courses in Military Science—युद्ध-विद्या पाठ्यक्रम समिति ।
Clearing agents—निकासी एजेंट ।	Collaboration—सहयोग ।	Commode—कमोड, आलमारी ।
Cleanliness—सफाई, स्वच्छता ।	Collate—मिलाना ।	Commodity—पण्य, माल ।
Clearing office—चेक के भुगतान का कार्यालय ।	Collateral agreement—संपाश्विक समझौता ।	Common Contingent Charges—सामान्य प्रासंगिक व्यय ।
Clemency—राज्यक्षमा, मृदुलता ।	Collateral Security—समर्थक ऋणाधार ।	Communal harmony—साम्प्रदायिक मेल ।
Clergy—याजक वर्ग ।	Collation—समाकलन, मिलान ।	Communal hatred—साम्प्रदायिक घृणा ।
Clerical staff—लिपिकवर्ग, अमला ।	Collective fine—सामूहिक जुर्माना या अर्थदंड ।	Communal riot—साम्प्रदायिक दंगा ।
Clerk—लिपिक ।	Collector—जिलाधीश, समाहर्ता ।	Communication—संचार, संदेश, सूचना, संगमन ।
Clinical—नैदानिक ।	College—महाविद्यालय, कॉलेज ।	Communique—विज्ञप्ति, सरकारी सूचना ।
Clip—काटना, कतरना ।	Collision—सघट्टन, टक्कर ।	Commutation—परिवर्तन, दिक्परिवर्तन लघुकरण ।
Clipping—कर्तन, कटाई ।	Colonial prisoners—उपनिवेशी बन्दी ।	Commutation of Pension—निवृत्ति वेतन का परिवर्तन ।
Clock-winder—घड़ी की चाबी देने वाला ।	Colonial Service—उपनिवेशी सरकारी सेवा ।	Commute—परिवर्तन करना, कम करना ।
Close—(adj.) निकट, (v) बन्द करना ।	Colony—उपनिवेश, बस्ती ।	Commutated value—विनिमय मूल्य ।
Closet—कोठरी, कमरा, तहखाना, आला, ताक, अलमारी ।	Column—स्तम्भ, खंभा ।	Company—कम्पनी, समवाय ।
Closing—अंतिम, इति ।	Combating a (disease)—रोग का मुकाबला करना ।	Comparative statement—तुलनात्मक विवरण ।
Closing Balance—शेष रोकड़ ।	Combination of Posts—पदों का संयोजन ।	Compartment—डिब्बा ।
Closing Stock—अंतिम स्टॉक ।	Combustion—दहन ।	Compass—परकार ।
Closure—समापन, समाप्ति, बंदी ।	Combustion chamber mistri—दहन-कक्ष मिस्त्री ।	Compassionate gratuity—अनुग्रह उपदान ।
Closure Report—समापन सूचना ।	Comma—अल्प विराम ।	Compensation—क्षतिपूर्ति, मुआवजा, प्रतिकर ।
Cloud—बादल, मेघ ।	Commandant—कमांडेंट, आदेशक ।	
Clumsy—मढ़ा ।	Commemoration Volume—स्मारक ग्रंथ, अभिनन्दन-ग्रन्थ ।	
Clustery—गुच्छेदार ।	Commence—आरम्भ करना, शुरू करना ।	
Co-accused—सहामियुक्त ।	Commencement—आरम्भ ।	
Coagulate—जमाना, जमना ।	Commencement of Act—एक्ट का आरंभ, अधिनियम का आरम्भ ।	
Coagulation—जमाव, आतंचन ।		
Coaltar—तारकोल, अलकतरा ।		
Coarse—मोटा, स्थूल ।		
Coat of Arms—कुल चिह्न ।		
Coat of paint—रंग या रोगन का लेप ।		

Compensatory Allowance—प्रति-
कर मत्ता ।
Compete—मुकाबिला करना, होड़ करना,
प्रतियोगिता करना, प्रतियोगी होना ।
Competency—सक्षमता, नामर्थ्य ।
Competent—सक्षम, समर्थ ।
Competent authority—सक्षम प्राधि-
कारी ।
Competent Court—सक्षम न्यायालय ।
Competitive Examination—प्रति-
योगिता परीक्षा ।
Compilation—संग्रह, संकलन ।
Compiled—संग्रह किया हुआ, संकलित ।
Compilation of Statistics—आंकड़ों
का संकलन ।
Complainant—फरियादी, वादी ।
Completion Plans—समापन मानचित्र
(नक्शे) ।
Completion of Courses—विषयों की
समाप्ति ।
Complex Mahal—शामलाती महाल,
साजे का महाल ।
Comply—मानना, पालन करना ।
Component parts—पुर्जे, अवयव ।
Composite slab—भूमाले की शिला ।
Composition deed—समझौता पत्र ।
Compound—राजीनामा करना, अहाता ।
Compoundable offences—प्रशम्य
अपराध ।
Compounder—कंपाउंडर, सम्मिश्रक ।
Compression—संपीड़न, दबाव ।
Comprising—समाविष्ट करते हुए ।
Compromise—समझौता ।
Compulsion—बाध्यता, विवशता, मज-
बूरी ।
Compulsory Primary Education
Manual—अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा
नियम पुस्तक ।
Compulsory registration—अनिवार्य
पंजीयन, अनिवार्य रजिस्ट्री ।
Compulsory retirement—अनिवार्य
निवृत्ति ।
Compute—गिनाव लगाना, गणना
करना ।
Computation—गणना ।
Computation of Fees—मुक्त गणना ।
Computed—गणित ।
Computer—गणक ।
Conceive—धरना ।
Co-operative Camp—रथी शिविर,

नजरबंदी शिविर ।
Concentric—संकेन्द्रीय ।
Concession—रिआयत ।
Concise—संक्षेपतः, संक्षिप्त रूप में ।
Concrete work—कंक्रीट का काम ।
Concur—सहमत होना ।
Concurrence—सहमति ।
Concurrent—समवर्ती, संगामी ।
Concurrent Judgment—संगामी
निर्णय ।
Condemned prisoner—अपराधित
बंदी ।
Condenser attendant—संचालित्र
परिचर ।
Condiment—(खाने का) मसाला ।
Condition of qualifying service—
सेवा की अर्हता-शर्त ।
Conditional—सर्त, शर्तबन्ध ।
Conditionally—शर्त के साथ ।
Conditional long-term settlement—
सशर्त दीर्घकालीन बन्दोबस्त ।
Conditional order—सशर्त आदेश,
सप्रतिबन्ध आज्ञा ।
Conditional Sale—सशर्त विक्रय ।
Conditions of Service—नौकरी की
शर्तें ।
Condonation—क्षमा, माफ़ी ।
Condonation of shortage in
attendance—उपस्थिति की कमी की
माफ़ी ।
Conduct—चालचलन, आचरण, व्यव-
हार, आचार ।
Conduction—संवहन, चालन ।
Conductor—संवाहक, चालक ।
Conduit—नाली, तारनाली, वाहक नाली ।
Cone—शंकु ।
Confederacy—राज्यसंघ ।
Confer—देना, प्रदान करना, परामर्श
करना, राय लेना, मत पूछना, बातचीत
करना ।
Conference—सम्मेलन ।
Conferment of Powers—अधिकार
प्रदान ।
Confession—अतंताप-स्वीकार, स्वीकार ।
Confidence—निश्चय, विश्वास ।
Confidential—गोपनीय, विश्वास्य ।
Confirm—पुष्टि करना, दृढ़ करना, सत्य
करना, दफ्त करना ।
Confirmation—अनुमोदन, पुष्टि करना,
दुआवन ।

Confiscated weapon—जप्त किया हुआ
हथियार ।
Confiscation—जप्ती, राज्यसत्तारण ।
Conformity—अनुकूलता, अनुकूलता,
समानता, मेल, समन्वित्व ।
Confused—गड़बड़, धवड़या हुआ, गंज-
यात्मक ।
Conic section—गांठक, काट ।
Conjecture—अनुमान, अंदाजा ।
Conjugal rights—दाम्पत्य अधिकार ।
Connivance—सहमयोगी, अज्ञान
अनुमति ।
Connive—कामना उपेक्षा करना, अज्ञान
मुंदना ।
Conscientious—अंतर्भावनाशील, गति-
वेदी ।
Conscription—जबरिया नरती, अनि-
वार्य भरती ।
Consecutive—निरंतर, लगातार,
क्रमिक ।
Consequential—आनुपंगिक, परिणामी ।
Conservancy animals—संरक्षित होनेवाले
पशु ।
Consideration—प्रतिफल, विचार ।
Consign—मान भेजना ।
Consignment—परिचालन या प्रेषित मान,
प्रेषण ।
Consignor—मान भेजनेवाला, प्रेषक ।
Consistent—संगत ।
Consolidated—संगठित ।
Consolidated bills and Consoli-
dated Statements—संगठित बिल
और विवरण-पत्र ।
Consolidated debt—समेतित ऋण ।
Consolidated forecast—समेतित
पूर्वानुमान ।
Consolidated Pay—समेतित वेतन ।
Consolidation—समेतन, संघटन ।
Consolidation of holdings—संघ-
बन्दी ।
Consolidation Officer—संघबन्दी
अधिकारी ।
Consolidator—संघबन्दी कारी ।
Conspiracy—संजुग, साजिश ।
Constable—मिस्त्री, थानेदार ।
Contact—सिद्ध, संपर्क, सिलसला ।
Constitution—संविधान ।
Constitutional—संविधान, संघटन ।
Constitutional—संघटन के संबंध ।
Constitutional—संघटन के संबंध ।

Contact—सम्पर्क, संस्पर्श ।	Convict—सिद्धदोष, कैदी ।	Counter affidavit—प्रतिशपथपत्र ।
Contagious disease—छूत की बीमारी, संक्रामक रोग ।	Convicting—सजा देनेवाले, दंड देनेवाले ।	Counter-balance—प्रतितोलित करना, काट करना, तुल्य भार करना, बराबर करना, प्रतिसंतुलित करना ।
Contemplated—अवेक्षित ।	Convicting Court—सजा देनेवाली अदालत ।	Counter-claim—प्रति या जवाबी ।
Contempt—अवमान, अवज्ञा, अवहेला ।	Conviction—अभिशास्ति ।	Counterfeit coin—जाली सिक्का ।
Contents—विषय-सूची अन्तर्वस्तु ।	Co-operative Society—सहकारी समिति ।	Counterpart—प्रतिलिपि, मुसन्ना, तद्-रूप, मेल, जोड़, जवाब, प्रतिरूप ।
Context—प्रसंग, संदर्भ ।	Co-opt—सहयोजित करना ।	Counter signature—प्रतिहस्ताक्षर ।
Contingencies—प्रासंगिक व्यय ।	Co-ordination—समन्वय, तालमेल, एकरूपता ।	Countersigned—प्रतिहस्ताक्षरित ।
Contingent—प्रासंगिक ।	Co-owner—सहस्वामी ।	Counting of service for—के लिये नौकरी का जोड़ना ।
Contingent charges—फुटकर व्यय ।	Coparcener—अंशी, भागीदार ।	Country—देश, प्रदेश ।
Contingent Expenditure—सांयोगिक व्ययभार ।	Copy—नकल, प्रतिलिपि ।	Country wood—देशी लकड़ी ।
Continuance—जारी रहना ।	Copy forwarded to—प्रतिलिपि भेजी गई ।	Coupon—कूपन ।
Continuation—जारी रहना, सिलसिला ।	Copyist—प्रतिलिपिक, नकलनवीस ।	Course of Submission—उपस्थापन क्रम ।
Continuous Active Service—अविच्छिन्न सक्रिय नौकरी, अविरत सक्रिय मृत्या ।	Copy of Extract—उद्धरण की प्रतिलिपि ।	Courses of Study—पाठ्यक्रम, पाठ-चर्या, कोर्स ।
Contour—रूपरेखा ।	Copy Stamped Papers—प्रतिलिपि मुद्रित पत्र ।	Court—न्यायालय, अदालत ।
Contraband—निषिद्ध, वर्जित ।	Corbel—टोडा ।	Courteous—शिष्ट ।
Contract—ठेका, करार, संविदा ।	Cornice—कंगूरा, कारनिस ।	Court Fee Act—न्यायालय फीस या शुल्क-विधान, कानून रसूम अदालत ।
Contract allowance—नियत भत्ते ।	Coronation—राजतिलक, राज्याभिषेक ।	Court Fee Label—न्यायाशुल्क चिप्पी ।
Contract of Sale—विक्रय करार ।	Coronor—अपमृत्यु विचारक ।	Court Martial—फौजी अदालत, सैनिक न्यायालय ।
Contractual relation—संविदागत संबंध ।	Corporal armourer—कारपोरल आर्मे-र, कारपोरल आयुधकार ।	Court of Law—न्यायालय ।
Contradistinction—विभेद ।	Corporal Instructor—व्यायाम शिक्षक ।	Court of Small Causes—लघुवाद न्यायालय, अदालत खफीफा ।
Contrary—विपरीत, विरोधी, प्रतिकूल ।	Corporal punishment—शारीरिक दंड ।	Court of Wards—प्रतिपालक अभि-करण ।
Contravention—उल्लंघन ।	Corpuscle—कणिका ।	Covenant—प्रसंविदा ।
Contribution—अंशदान, चन्दा ।	Corrected proof—संशोधित शोधपत्र ।	Crab—केकड़ा, कर्क ।
Contribution for leave and pension—छुट्टी और अनुवृत्ति के लिये अंशदान ।	Correction—संशोधन, शोधन, दुरुस्ती, शुद्धि ।	Craft—शिल्प, व्यवसाय, धंधा ।
Control clock—नियंत्रक घड़ी ।	Correction and addition slips—शोधन तथा जोड़ पर्चियाँ ।	Create a right—अधिकार पैदा करना ।
Control flume—नियंत्रक फ्लूमनाली ।	Correspondence—पत्रव्यवहार ।	Creation of a Post—जगह का कायम किया जाना, पदस्थापन ।
Controller of Stamps—स्टाम्प नियंत्रक, मुद्रांक नियंत्रक ।	Corrigenda—शुद्धिपत्र ।	Creative—सृजनात्मक, सर्जनात्मक ।
Controlling officer—नियंत्रण अधिकारी ।	Corrosive Sublimate—रसपुष्प ।	Credit—जमा ।
Controversial—विवादालक ।	Corrugated—नालीदार ।	Credit advice—जमा-सूचना ।
Convalescent—उपशमक, उपशमी ।	Cost—लागत, खर्च, व्यय, परिव्यय ।	Credit notes—जमा-पत्र, साख-पत्र ।
Convene—सभा बुलाना, संयोजन करना ।	Cost realized—वसूल लागत ।	Credit revenue—ऋण राजस्व ।
Convener—संयोजक ।	Co-tenant—सह-कृपक, खाता शरीक ।	Crest—शिखर, चोटी, शीर्ष ।
Conventionally—रिवाजी तौर पर, प्रयानुसार ।	Cotton balls—कपास का गूल ।	Crime Police—अपराध रोधक पुलिस ।
Conversant—परिचित, वाक्किफ ।	Council House—समाभवन, कौंसिल हाउस ।	Crime Records Officer—अपराध अभिलेख अधिकारी ।
Conversation—वातचीत ।	Council of Physical Culture—शारीरिक शिक्षा परिषद ।	Crime reports—अपराध रपटें ।
Conversing—वातचीत करते हुए ।	Council of States—राज्य सभा ।	Criminal Intelligence Gazette—खुफिया विभाग का गजट या राजपत्र ।
Conversion—परिवर्तन, बदलाना ।	Counsel—मंत्रणा, सलाह, वकील ।	
Conveyance—सम्पत्ति हस्तांतरण, हस्तांतरण (पत्र) सवारी ।		
Conveyance Allowance—सवारी भत्ता ।		

Criminal Investigation Department (C. I. D.)—खुफिया पुलिस विभाग, गुप्तचर पुलिस विभाग।
 Criminal mental patient—अपराधी मस्तिष्क रोगी।
 Criminal offence—दण्ड्य अपराध।
 Criticise—आलोचना या समालोचना करना।
 Crockery—चीनी मिट्टी के बरतन।
 Crop failure—फसल का खराब होना, फसल का विगड़ जाना।
 Crops—फसलें।
 Cross-appeal—प्रति-अपील।
 Cross-examination—प्रति परीक्षा, जिरह।
 Crossing of efficiency bar—प्रगुणता रोध का पार करना।
 Cross-objection—प्रत्याक्षेप, प्रति आपत्ति।
 Cross Section—अनुप्रस्थ या आड़ी काट, व्यत्यस्त।
 Crown of an arch—तोरण-शीर्ष, मेहराब का शीर्ष।
 Cruelty towards animals—जानवरों के प्रति निर्दयता।
 Cube—घन।
 Cube root—घन-मूल।
 Cubic foot—घन फुट।
 Culinary—पाकशाला।
 Culpable—दंडनीय, सद्दोष।
 Culpable homicide not amounting to murder—सद्दोष मानव-वध।
 Culturable—कृषियोग्य, कृष्य।
 Cultivator—किसान, कृषक।
 Cultivation—खेती।
 Culture medium—घोषक माध्यम, संवर्धन माध्यम।
 Culvert—पुलिआ।
 Cumbersome—कष्टकर, बोझिल।
 Cupboard—आलमारी।
 Curator (of Museum)—संग्रहालय अध्यक्ष।
 Currency—मुद्रा, चलार्थ।
 Current—(n.) धारा, बिजलीधारा; (adj.) प्रचलित।
 Curriculum—पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों की सूची।
 Curtain wall—रक्षक दीवार का भीत; रक्षक परदा।
 Curtness—रुसाई।

Curve—वक्र, वक्रता, घुमाव।
 Cushion—गद्दी।
 Custodian—परिरक्षक।
 Custody—हिरासत, अभिरक्षा।
 Custody of stamps—स्टाम्प का संरक्षण।
 Custody of wills—वसीयतनामों की अभिरक्षा।
 Customary—आचारिक, रूढ़िजन्य।
 Custom officer—सीमाशुल्क अधिकारी।
 Cut—कटौती।
 Cutaneous—त्वचीय।
 Cut motion—कटौती प्रस्ताव।
 Cutting—काटना, कटाई।
 Cut water—पनकट।
 Cycle allowance—साइकिल भत्ता।
 Cyclostyle—चक्रलेखित्र।
 Cysto—कोष्ठ।

D

D.B.B.L. guns—दुनलौ कारतूसी बन्दूकें।
 Dacoity—डकैती, डाका।
 Dagger—छुरा।
 Daily allowance—दैनिक भत्ता।
 Daily labour return—दैनिक मृति का चिट्ठा।
 Dak—डाक।
 Dak Bungalow Establishment—डाक बंगले के कर्मचारी।
 Damage—क्षति, हानि, टूट-फूट।
 Damaged stamp—क्षतिग्रस्त स्टाम्प।
 Damages suit—क्षतिपूर्ति का वाद।
 Danger—खतरा, संकट।
 Dangerous—मयानक, भयावह, खतरनाक।
 Data—दत्त सामग्री, आधार-सामग्री, आंकड़े।
 Date—तारीख, दिनांक, तिथि।
 Dated—दिनांकित।
 Date of birth—जन्म-दिवस, जन्म दिनांक।
 Date of institution—प्रवेशकीय तिथि।
 Day scholar—अनावासिक छात्र।
 Day school—दोपहर का स्कूल, दैनिक स्कूल।
 Dealer—व्यापारी।
 Dean—संकायाध्यक्ष।
 Dearness allowance—महंगाई का भत्ता।

Debate—वाद-विवाद।
 Debenture—ऋणपत्र।
 Debit—नामे, नामखाता।
 Debit advice—नामे डालने की सूचना।
 Debited—नामे डाला।
 Deceased—मृत, स्वर्गीय।
 Decentralization Committee—विकेन्द्रीकरण समिति।
 Decimal fraction—दशमलव भिन्न।
 Decision—निश्चय, निर्णय, फैसला।
 Declaration form—घोषणा पत्र।
 Declaration of trust—न्यास-घोषणा।
 Declaratory—घोषणात्मक।
 Declaratory decree—घोषणात्मक डिग्री।
 Decontrol—नियन्त्रण हटाना।
 Decree—डिगरी, आज्ञाप्ति।
 Decree-absolute—अंतिम डिगरी।
 Decree-holder—डिगरीधारी, डिगरी-दार।
 Decree for judicial separation—जुडिशियल विच्छेद की डिगरी।
 Deduction—कटौती, मिनहाई।
 Deed—विलेख।
 Deed of agreement—इकरारनामा।
 Deed of Exchange विनिमय-पत्र।
 Deed of gift—दान पत्र।
 Deed of lease—पट्टा।
 Deface—विरूप करना।
 De facto—वस्तुतः, दरअसल।
 Defalcation—खयानत, गवन।
 Defamation—मानहानि।
 Default—चूक, अभाव।
 Defaulter—वाकीदार।
 Defect—दोष, त्रुटि, खराबी, कमी।
 Defective—सद्दोष, दोषयुक्त, त्रुटिपूर्ण, खराब।
 Defence—प्रतिरक्षा, प्रतिवाद।
 Defence Department—रक्षा-विभाग।
 Defence Savings Provident Fund—रक्षा-वचत निर्वाह-निधि।
 Defence witness—प्रतिवादी साक्षी।
 Defendant—प्रतिवादी।
 Deferred pay—आरथगिन वेतन।
 Deficiency—न्यूनता, कमी, कसर, अभाव, त्रुटि।
 Deficiency in embezzlement—गवन-घन में कमी।
 Deficiently stamped—न्यूनस्तान मुद्रा।
 Deficit—घाटा, कमी।

Deficit grant—घाटा-पूरक अनुदान ।
 Define—परिभाषा करना ।
 Definite share—निश्चित या सीमित भाग ।
 Definition—परिभाषा ।
 Defraud—कपट करना ।
 Degeneration—अपकर्ष, अपविकास ।
 Degree—उपाधि, घात, कोटि, अंश, अवस्था ।
 Degree College—महाविद्यालय, उपाधि महाविद्यालय ।
 De jure—विधितः, न्यायतः ।
 Delegacy—प्रातिनिधिक ।
 Delete—निकाल देना, काट देना ।
 Delegation—शिष्टमंडल, प्रत्यायोग ।
 Delegation of power—अधिकार भार सौंपना ।
 Delinquency—अपचार ।
 Delinquent—अपचारी, बकाया ।
 Deliver—देना, प्रदान करना, सुपुर्द करना, छोड़ना, सौंपना, (मालका) मुक्त करना ।
 Delivery—सुपुर्दगी, दे देना, सौंप ।
 Delivery of goods—माल छोड़ना, सुपुर्दगी ।
 Demand—मांग, अभियाचना ।
 Demarcated—सीमांकित ।
 Demeanour—व्यवहार, चेष्टा, मुद्रा ।
 Demi-official—अर्ध सरकारी ।
 Demised—पट्टे पर दी गई (भूमि) ।
 Demodectic scabies—खुजली ।
 Demonstration farm—प्रदर्शन फार्म ।
 Demurrage—विलम्ब-शुल्क ।
 Denaturalized—विप्रकृत ।
 Denomination—मूल्य-वर्ग संज्ञा ।
 Denominator—हर (गणित) ।
 De novo—नये सिरे से ।
 Department—विभाग ।
 Departmental—वैभागिक ।
 Departmental cognizance—वैभागिक हस्तक्षेप ।
 Departmental inquiry—विभागीय या वैभागिक जाँच ।
 Departmental proceedings—विभागीय या वैभागिक कार्रवाई ।
 Departure from normal—सामान्य अवस्था से विचलन ।
 Deportation—विवासना ।
 Deposit—(n.) जमा; (v) जमा करना, निक्षेप करना ।

Deposit slip—जमा पर्ची ।
 Depot—डिपो, भंडार, गोदाम ।
 Depressed class—दलित वर्ग, दलित जाति ।
 Deputation—शिष्ट-मंडल, प्रतिनियुक्ति ।
 Deputation allowance—प्रतिनियुक्ति भत्ता ।
 Depute—प्रतिनियुक्त करना ।
 Deputy Commissioner—उपआयुक्त ।
 Deputy Director of Education—उप शिक्षा संचालक ।
 Deputy Hydro-electric Engineer—उप जल-विद्युत् अभियन्ता ।
 Deputy Revenue Engineer—प्रति-राजस्व अभियन्ता ।
 Deputy Revenue Officer—उप माल अफसर ।
 Deputy Secretary—उप सचिव ।
 Derailment—पटरी से उतरना ।
 Dereliction—उत्थाग ।
 Derogate—आंशिक निष्प्रभव करना, अमर्यादित करना ।
 Derogatory—अप्रतिष्ठाजनक, अल्प-कारी, अपकर्षी ।
 Descendant—संतति, वंशज ।
 Descent—उद्भव, औलाद ।
 Describe—वर्णन करना, बयान करना ।
 Description of executants—निष्पादकों का विवरण ।
 Descriptive roll—विवरणी ।
 Descriptor—वर्णनकर्ता ।
 Desert—छोड़ देना, परित्याग, त्यजन, रेगिस्तान, मरुस्थल, मरुभूमि ।
 Deserter—भगोड़ा ।
 Desired—वांछित, इच्छित, अभिलषित ।
 Desiccator—शोषित्र, सोखता ।
 Designate—मनोनीत, नामित ।
 Designation—पदनाम, ओहदा ।
 Despatch—भेजना, प्रेषण, शीघ्रता ।
 Despatcher—प्रेषक ।
 Destruction—विनाश, विघटन ।
 Detailed bills—व्यौरेवार पुर्जा ।
 Detailed estimate—व्यौरेवार अनुमान या तखमीना ।
 Detailed list—विस्तृत सूची ।
 Detain—निरुद्ध करना, रोकना ।
 Detained student—परीक्षा से रोके गये छात्र ।
 Detection—अन्वेषण, पहचान, संसूचन खोज ।

Detective—जानूस, गुप्तचर, खुफिया ।
 Detention—निरोध, रुलाई, अवरोध, नजरबन्दी ।
 Detention allowance—अवरोधन भत्ता ।
 Detenu—निरुद्ध, कैदी ।
 Deterioration—अपहसन, हास, कमी ।
 Development—विकास, उन्नति ।
 Deviate—विचलित होना ।
 Devolution—अंतरण, न्यागमन ।
 Devolve—न्यागत होना, सौंपना ।
 Diagnosis—निदान ।
 Diameter—व्यास ।
 Diamond drill Foreman—हीरक वरमा फोरमैन ।
 Diarised—दैनंदिनी पर उल्लिखित ।
 Diarrhoea—अतिसार, दस्त की बीमारी ।
 Diary—दैनंदिनी, रोजनामचा, दैनिकी, डायरी ।
 Diary Copy Book—दैनिकी की नकल प्रति ।
 Dietary—आहार संबंधी ।
 Diet money—भोजन मूल्य ।
 Difference of opinion—मतभेद ।
 Differentiate—भेद परखना ।
 Digest—निचय, सार-संग्रह ।
 Dignity—गरिमा, गौरव ।
 Digress—विषयान्तर होना ।
 Dilatory tactics—विलंबी युक्तियाँ ।
 Diploma—सनद ।
 Diplomacy—राजनय, कूटनीति ।
 Direct—सीधा, सरल, प्रत्यक्ष ।
 Direct charges—प्रत्यक्ष प्रभार ।
 Direct expression—स्पष्टार्थ कथन ।
 Direction—निदेश, निदेशन ।
 Director—निदेशक ।
 Directorate—निदेशालय ।
 Director General of Commercial Intelligence and Statistics—वाणिज्य संबंधी जानकारी और आँकड़ों के महा निदेशक ।
 Director of Agriculture—कृषि निदेशक ।
 Director of Education—शिक्षा निदेशक ।
 Director of Jail Industries—कारागार उद्योग निदेशक ।
 Disability—अशक्तता; निर्योग्यता ।
 Disability leave—अशक्तता छुट्टी ।
 Disagree—असहमत होना ।

Disappearance—लोप, गायब ।	Dissolution—भंग, विलयन, विघटन ।	Division of holdings—जोतों का विभाजन ।
Disarm—निःशस्त्र करना ।	Dissolution of partnership—साझा-भंग ।	Divorce—विवाह-विच्छेद, तलाक ।
Disburse—वितरण करना, भुगतान करना ।	Dissolve—विघटित करना, घुलना, घोलना, घुलाना ।	Docket—सारांश, कार्यक्रम ।
Disbursement—भुगतान, परिव्यय, वितरण ।	Dissolving—भंग करना ।	Docket form—डाकेट फार्म ।
Disbursing—वितरण-कारी ।	Distinctive—विशिष्ट, प्रभेदक ।	Docketing—डाकेट बनाना ।
Disbursing Officer—वितरण-अधिकारी ।	Distinction—प्रभेद, भिन्नता, विशिष्टता, विभेद ।	Document—दस्तावेज, प्रलेख ।
Disc—बिम्ब, चकती ।	Distinct matters—विभिन्न विषय, विविध विषय ।	Documentary—दस्तावेजी, लेख्य ।
Discharge—निस्सारण ।	Distinguishing letter—विशेषक अक्षर, विभेदक अक्षर ।	Documentary evidence—लेख्य साक्ष्य ।
Discharged Prisoner's Aid Society—उन्मुक्त बन्दी सहायक समिति ।	Distress warrant—अभिहार वारंट ।	D.O. letter—अर्ध-सरकारी पत्र ।
Disciplinary action—अनुशासनिक कारवाई ।	Distribute—वितरण करना, बाँटना ।	Domestic purpose—घरेलू काम ।
Discipline—अनुशासन ।	Distribution—विस्तार, वितरण ।	Domestic Science—गृहविज्ञान, घरेलू विज्ञान, गृहविद्या ।
Disclaimer—दावा छोड़ देना ।	Distribution main—वितरण का मुख्य पाइप या तार ।	Domicile—अधिवास ।
Disconnection—संबंध-विच्छेद, वियोजन ।	Distribution of power—शक्ति का वितरण ।	Donation—दान ।
Discount—मिती-काटा, बट्टा ।	District Adult Education Committee—जिला प्रौढ़ शिक्षा समिति ।	Donee of authority to adopt—गोद लेने का आहता ।
Discrepancy—असंगति ।	District Board—जिला बोर्ड, जिला परिषद ।	Donor—दाता ।
Discrepancy memo—असंगति पत्र ।	District Executive Force—जिला पुलिस ।	Dotted Lines—बिंदु रेखा ।
Discretion—विवेक ।	District Field Instructor—जिला क्षेत्र शिक्षक ।	Double lock—दो कुजीवाला ताला ।
Discretionary registration—विवेकाधीन रजिस्टरी ।	District grain account—जिला अन्न-राशि लेखा ।	Double shift system—द्विपारी प्रथा ।
Discussion—विचार-विमर्श, विवेचन ।	District Inspector of Schools—जिला विद्यालय निरीक्षक ।	Doubtful entry—संदिग्ध प्रविष्टि ।
Disembark—(नाव से) उतरना ।	District Intelligence Staff—जिला खुफिया पुलिस विभाग ।	Doutine Act—डूरिन नियम ।
Disembarkation—जहाज से उतार या अवरोहण ।	District Medical Officer of Health—जिला स्वास्थ्य अधिकारी ।	Dowry—दहेज ।
Disinfectant—रोगणुनाशक, निस्संक्रामक ।	District Municipal Board—जिला नगरपालिका समिति ।	Drafter—मसौदा बनानेवाला ।
Disinfection—निस्संक्रमण, रोगणुनाशन ।	District Organiser—जिला आयोजक ।	Draft for approval—मंजूरी के लिए मसौदा, स्वीकृति के लिए पांडुलेख ।
Dismantlement—इमारत को गिराना ।	District Statement—जिला नकशा या व्यौरा ।	Draught—घुंट ।
Dismissal—पदच्युति ।	District Waqf Committee—जिला वकफ समिति ।	Drawing—रेखाचित्र ।
Dismissal from service—नौकरी से कार्यच्युत करना, नौकरी से बर्खास्त करना ।	Ditto—यथोपरि, ऐजन् ।	Drawing establishment—रेखाचित्र स्थापना ।
Dismissed in default—अनुपस्थिति के कारण खारिज ।	Diversions—बिचलन, हटना, हट जाना ।	Drawing officer—आहर्ता अधिकारी ।
Dismissed summarily—क्षिप्रता से खारिज ।	Diversity factor—भेद गुणक ।	Dress—वेष, बर्दी ।
Disobedience—अवज्ञा, आज्ञाभंग, आज्ञालंघन ।	Dividend—लामांश ।	Dress Regulations—वेष नियम ।
Dispensary—औषधालय ।	Divisional—मंडल या प्रभाग संबंधी ।	Drill—कवायद, व्यायाम ।
Dispense with—अलग करना ।	Divisional Canal Officer—मंडल नहर अधिकारी ।	Driver—चालक, ड्राइवर ।
Disposal—निर्वर्तन, निपटारा ।		Drought—अनावृष्टि, सूखा ।
Dispose of—बेच डालना, निपटाना ।		Dryage—सूखन ।
Disposition—प्रवृत्ति, चित्तवृत्ति ।		Dry weather prevailed there—after till the end of the month—उसके पश्चात् मास के अन्त तक अनावृष्टि रही ।
Disputable claim—विवादास्पद दावा ।		Due—देय, प्राप्य, उचित ।
Disqualification—अनहता, अयोग्यता ।		Due disposal of cases—प्रकरणों तथा वादों का उचित निर्वर्तन ।

Duplicate—अनुलिपि, दोहरा ।
 Durability—स्थायित्व ।
 Duration of absence—अनुपस्थिति की अवधि ।
 Duress—दबाव, बाध्यता, विवाध्यता ।
 Dustproof—धूलरोधक ।
 Duty—कर्तव्य, कार्य, महसूल, शुल्क ।
 Duty allowance—शुल्क मत्ता ।
 Duty on conveyance—सम्पत्ति हस्तान्तरण पर शुल्क ।
 Duty on counterpart or duplicate—प्रतिलिपि या अनुलिपि पर शुल्क ।
 Dying declaration—मृत्युकालीन घोषणा ।
 Dysentery—रक्तातिसार, पेचिश ।

E

Early—शीघ्र, जल्दी, अगेती ।
 Early Kharif Crop—अगेती खरीफ की फसल ।
 Earmark—(के लिये) अलग रखना, निर्दिष्ट करना ।
 Earned—अर्जित, उपार्जित ।
 Earned leave—अर्जित छुट्टी ।
 Earned leave on average pay—औसत वेतन पर अर्जित छुट्टी ।
 Earned leave on full pay—पूरे वेतन पर अर्जित छुट्टी ।
 Earned leave on half average pay on medical certificate—चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर आधी औसत वेतन पर अर्जित छुट्टी ।
 Earnest money—बयाना, पेशगी ।
 Earth-work—मिट्टी का काम ।
 Easement—सुखभोग ।
 Easement of light—प्रकाश का सुखभोग ।
 Easement, suit of—सुखभोग का वाद ।
 East-coast fever—पूर्व-तटीय ज्वर ।
 Eaves—ओलती ।
 Ebony—आबनूस ।
 Eccentric—उत्केन्द्र ।
 Ecclesiastical—गिरजे-संबंधी, धर्म-संबंधी ।
 Economics—अर्थशास्त्र ।
 Economy—मितव्ययिता, अर्थव्यवस्था, अर्थनीति, किफायत ।
 Ectozoa—बहिर्परजीवी ।
 Edition—संस्करण ।

Education—शिक्षा ।
 Educational—शिक्षा-सम्बन्धी ।
 Educational code—शिक्षाविधि संग्रह ।
 Educational Psychology—शिक्षा मनोविज्ञान ।
 Education Expansion Department—शिक्षा प्रसार विभाग ।
 Education Expansion Officer—शिक्षा प्रसार अधिकारी ।
 Effect of enactments—अधिनियमों का प्रभाव ।
 Effect of registration—रजिस्टरी का प्रभाव ।
 Effective capacity—प्रभावी क्षमता ।
 Efficiency—निपुणता, कार्यक्षमता ।
 Efficiency Bar—दक्षता-रोध ।
 Efficient—निपुण, कार्यक्षम ।
 Egress—निर्गम, निर्गमन ।
 Ejectment—बेदखली ।
 Elastic garters—लचकदार गेटिस ।
 Elect—निर्वाचित करना, चुनना ।
 Election—निर्वाचन, चुनाव ।
 Election campaign—चुनाव अभियान ।
 Election to retain his old or revised scale of pay—अपना पुराना या नया वेतनक्रम रखने की छूट ।
 Electrical and Mechanical Assistant of Tubewells & Irrigation works—नलकूप तथा सिंचाई के विद्युतिक एवं यांत्रिक सहायक ।
 Electrical contractors—विजली के ठेकेदार ।
 Electrical equipment—विद्युत् उपस्कर ।
 Electrical installation—विद्युत् प्रतिष्ठापन ।
 Electrical merchants—विद्युत् व्यवसायी ।
 Electrical shocks—विजली के धक्के ।
 Electrical supervisors—विद्युत् पर्यवेक्षक ।
 Electrical Supply Administration—विद्युत् प्रदाय प्रशासन ।
 Electrician—विजली मिस्त्री ।
 Electrician's Pay—विजली मिस्त्री का वेतन ।
 Electric Inspector—विद्युत् निरीक्षक ।
 Electricity—विद्युत्, विजली ।
 Electrification—विद्युतन ।
 Elegance—सुन्दरता ।
 Elementary—प्रारम्भिक, प्राथमिक ।

Elementary knowledge—प्राथमिक ज्ञान ।
 Elementary Psychology—प्राथमिक मनोविज्ञान ।
 Elementary Rules—प्रारम्भिक नियम ।
 Elevation—उच्चता, उत्थान ।
 Eligible—योग्य, पात्र ।
 Eligibility—पात्रता, योग्यता ।
 Eliminate—निरसन करना, लुप्त करना ।
 Elimination—निरसन, विलोपन ।
 Ellipse—दीर्घवृत्त ।
 Elliptic and curved figure—दीर्घवृत्त एवं वक्र क्षेत्र ।
 Eloquent—वाग्मी, वाग्मितापूर्ण ।
 Embankment—बाँध, भराव, बंध ।
 Embarrassment—आकुलता, परेशानी ।
 Embarkation—नौरोहण ।
 Embezzlement—गबन ।
 Emergency—आपात, विपत्ति, संकट-काल, आकस्मिक आवश्यकता ।
 Emergency provisions—संकटकालीन आदेश ।
 Emergent—आपाती, आपातिक ।
 Emergent Contingent Grant—आपाती प्रासंगिक अनुदान ।
 Emergent Indent—अत्यावश्यक माँग-पत्र, आत्ययिक माँगपत्र ।
 Emolument—उपलब्धि, पारिश्रमिक ।
 Emphasis—जोर, बल ।
 Employment—नौकरी, काम, धंधा ।
 Empower—अधिकार देना ।
 Empowered—अधिकार प्राप्त, अधिकृत ।
 Emulsion—पायस, मिश्रण ।
 Enact—अधिनियम बनाना ।
 Enactment—अधिनियम ।
 Employer—नियोक्ता, मालिक ।
 Enamelling—मीनाकारी ।
 En-camera trial—गुप्त-कक्ष-विचार ।
 Encamp—डेरा डालना, पड़ाव डालना, शिविर लगाना ।
 Encamping ground—पड़ाव भूमि, शिविर स्थल ।
 Encampment—डेरा, पड़ाव, शिविर, छावनी ।
 Encash—भुनाना, तुड़ाना, सकारना, हुंडी का भुगतान देना ।
 Encasing—आवेषित करना ।
 Enclose—बंद करना ।
 Enclosure—सह-पत्र, संलग्न-पत्र ।
 Encroachment—अतिसर्पण, जमीन

दबा लेना ।	Equipment Table—सज्जा सामान सूची।	Examination for certificate in Military Science—युद्धविद्या प्रमाण-पत्र के लिये परीक्षा ।
Encumbered—भारग्रस्त ।	Equitable charge—साम्यिक भार ।	Examination in chief—मुख्य परीक्षण ।
Endorse—पृष्ठांकन या पृष्ठांकित करना।	Equitable mortgage—साम्यिक बन्धक ।	Examination in Indian Music (Diploma)—भारतीय संगीत की (डिप्लोमा) परीक्षा ।
Endorsed—पृष्ठांकित ।	Equity—साम्या, औचित्य ।	Examine—परीक्षा लेना या करना, जाँचना ।
Endorsement—पृष्ठांकन, बेचान, अनु-मोदन सकार, समर्थन ।	Equity of redemption—मोचन अधिकार ।	Examiner—परीक्षक ।
Endowment—धर्मस्व, धर्मादा, धर्मदाय ।	Equivalent—बराबर, तुल्य, समान, सम ।	Examiner of questioned documents—संदिग्ध लेख पत्रों के परीक्षक ।
Energy—ऊर्जा ।	Erasing—लुप्तिकरण, अपमार्जन ।	Example—उदाहरण ।
Enforce—लागू करना, प्रवर्तित करना ।	Erasure—काट-कूट ।	Ex-cadre post—निःसर्वगं पद ।
Enforcing appearance.—उपस्थिति के लिये बाध्य करना ।	Erected—बनाया गया ।	Exceed—अधिक होना, बढ़ जाना, आगे बढ़ना ।
Engineer—इंजिनियर, अभियंता ।	Errata list—अशुद्धि सूची ।	Exceeding—बढ़ा हुआ ।
Engineer, Electrical—विद्युत् अभियंता ।	Erratic—अनियत ।	Excellency, His—परमश्रेष्ठ ।
Engineer, Mechanical—यांत्रिक अभियंता ।	Erroneous entry—अशुद्ध प्रविष्टि ।	Except—अतिरिक्त ।
Engraving—नक्काशी, खुदाई ।	Error—त्रुटि, अशुद्धि, भूल, गलती ।	Excepting isolated thunder storms—इक्के-टुकके गरज तूफानों को छोड़कर ।
Enhance—बढ़ाना ।	Escape—(v.) भाग जाना, निकल भागना; (n.) पलायन ।	Exception—अपवाद ।
Enhancement—वृद्धि, बढ़ाया जाना ।	Escaped—निकल भागा ।	Exceptional circumstances—विशेष या आपवादिक परिस्थितियाँ ।
Enjoyment—उपभोग, उपयोग ।	Escapee—भाग्ग हुआ, भगू ।	Exception—अपवाद ।
Enquiry—जाँच, पूछताछ ।	Escheat—राजगामी (होना) ।	Except where otherwise provided—जहाँ अन्यथा व्यवस्था की गई हो ।
Enrolment—नामांकन, नामनिवेश पंजीयन ।	Escort—अनुरक्षी ।	Excess—अधिकता, आधिक्य, बढ़ती, अतिरिक्त, ज्यादाती ।
Enrolment of pleaders—वकीलों का भरती किया जाना या भरती होना ।	Essential—अनिवार्य, आवश्यक ।	Excess and savings—अधिक व्यय और बचत ।
Ensuing—आगामी, आनेवाला, अनु-वर्ती ।	Essence—सत्त्व, आसव ।	Excess grant—सीमोपरि अनुदान ।
Enteritis—आंत्रार्ति ।	Establishment—स्थापना, कर्मचारि-वर्ग, सिव्द्वंदी ।	Excessive—अत्यधिक ।
Enterprise—उद्यम ।	Establishment order book—स्था-पना-आज्ञापंजी ।	Excessive use—अत्यधिक प्रयोग ।
Entertain—सत्कार करना, खिलाना-पिलाना, ग्रहण करना, दाखिल करना ।	Estate—जागीर, भूसम्पत्ति, संपदा ।	Excess over the scale—वेतन क्रम के ऊपर बढ़ती ।
Entertainment and Betting Tax—मनोरंजन और पणनकर ।	Estate—जागीर, भूसम्पत्ति, संपदा ।	Excess of the sanctioned allotment—स्वीकृत दिष्टि से अधिक ।
Entertainment of staff—कर्मचारी वर्ग का नौकर रखा जाना ।	Estimate—आगणन, तखमीना, प्राक्क-लन, अनुमान ।	Exchange—विनिमय ।
Entertainment Tax Stamps—मनोरंजन कर मुद्रांक ।	Estimated—प्राक्कलित ।	Exchange compensation allow-ance—विनिमय क्षतिपूरक भत्ता ।
Entitled—अधिकारी ।	Estimated yield of current year—चालू वर्ष की अनुमानित उपज ।	Exchange deed—विनिमय पत्र ।
Entitled to—का अधिकारी ।	Estimated market value—आगणित पण मूल्य ।	Exchange, Instrument of—विनि-मय करणपत्र ।
Entries—प्रवेश, प्रविष्टि ।	Estimates and plans—आगणन और मानचित्र ।	Excise Department—आवकारी विभाग, उत्पादकर विभाग ।
Environment—परिस्थिति, पर्यावरण ।	Estoppel—विवंधन ।	Exclude—छोड़ना, अलग करना ।
Epidemic—महामारी ।	Etiquette—सभ्याचार, शिष्टाचार ।	
Epidiascope—पारा पारचित्रदर्शी ।	Evacuee Welfare Officer—निष्क्रांत-जन कल्याण अधिकारी ।	
Epizootic—पशुमहामारी ।	Evasion of registration—रजिस्टरी का अपवंचन ।	
Epizootic lymphangitis—पशु-महामारी गल प्रदाह ।	Evidence—साक्ष्य, शहादत, प्रमाण ।	
Equation—समीकरण ।	Evident—स्पष्ट ।	
Equilibrium—समतोल, साम्यावस्था ।	Evolution—क्रम-विकास, विकास ।	
Equipment—सज्जा-सामान, उपक-रण, उपस्कर ।	Examination—परीक्षा, परीक्षण, जाँच ।	
	Examination charges—परीक्षा व्यय ।	
	Examination Committee—परीक्षा-समिति ।	

Exclusion—वहिष्कार, अपवर्जन ।
 Exclüsiive—अनन्य, एकान्तिक ।
 Exclusively—केवल ।
 Excreta—पखाना, विष्ठा, पुरीष, मल-
 मत्र, मैला, गू ।
 Execute (*v.*)—फाँसी देना, पूरा करना,
 तामील करना, निष्पादन करना ।
 Executed Document—निष्पादित
 लेखपत्र ।
 Executant—निष्पादक ।
 Execution—फाँसी, कार्यान्वयन, निष्पा-
 दन ।
 Executioner—जल्लाद, बधिक, फाँसी
 देनेवाला, निष्पादन कर्ता ।
 Execution of a decree—डिग्री का
 निष्पादन ।
 Execution of deeds—लेख्यकरण,
 दस्तावेज लिखना, दस्तावेज करना ।
 Execution, Denial of—निष्पादन से
 इन्कार करना ।
 Execution of warrant—अधिपत्र की
 तामील ।
 Execution of work—निर्माण कार्यो
 का किया जाना ।
 Executive—कार्यपालिका, कार्यकारी ।
 Executive Authority—कार्यकारी
 प्राधिकारी ।
 Executive Committee—कार्य-
 कारिणी समिति ।
 Executive Council of the Univer-
 sity—विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी
 परिषद् ।
 Executive Engineer—कार्यकारी
 अभियंता ।
 Executor—निष्पादक ।
 Exemplification—सोदाहरण प्रति-
 पादन ।
 Exempt—घरी, मुक्त ।
 Exemption—मुक्ति, छूट, माफी ।
 Exercise—प्रयोग, कसरत, व्यायाम,
 अभ्यास ।
 Ex-gratia—अनुग्रहपूर्वक ।
 Ex-gratia relief—अनुग्रह रूप सहायता ।
 Exhaust—(*v.*) खाली कर देना, निर्वल
 कर देना, खींच लेना, खतम कर
 डालना; (*n.*) निकास नली ।
 Exhibit—प्रदर्शित या प्रदर्शनीय वस्तु ।
 Existing—वर्तमान ।
 Ex-officio—पदेन, पद के नाते ।
 Ex-officio Sub-Registrars—पदेन

उपपंजीयक ।
 Ex-officio vendors—पदेन विक्रेता ।
 Exoneration—छुटकारा, भार-मुक्ति,
 दोष-मुक्ति ।
 Expanded metal—बरफी जाली ।
 Expansion joint—प्रसरण जोड़ ।
 Ex parte—एकपक्षीय ।
 Expectoration—कफ निस्सारण, थूक,
 खखार ।
 Expediency—कालोचितता ।
 Expedient—इष्टकर, कालोचित ।
 Expedition fee—शीघ्रता शुल्क ।
 Expel—निकाल बाहर करना ।
 Expenditure—व्यय, खर्च ।
 Expense voucher—खर्चे का पुर्जा,
 व्यय-प्रमाणक ।
 Expensive—महंगा ।
 Experimental—प्रयोगात्मक, प्रायोगिक ।
 Expert—विशेषज्ञ ।
 Expiration—अन्त, समाप्ति ।
 Expire—समाप्त होना, मृत्यु होना ।
 Expiry—समाप्ति, अंत ।
 Expiry of leave—छुट्टी की समाप्ति ।
 Explain—व्याख्या करना, समझाना,
 स्पष्ट करना, जवाब देना, सफाई
 देना ।
 Explanation—स्पष्टीकरण, व्याख्या ।
 Explanation of fluctuations—कमी-
 वेशी की व्याख्या ।
 Explanatory clause—व्याख्यात्मक
 वाक्यखंड ।
 Explanatory memo—व्याख्यात्मक
 स्मृति-टीप ।
 Explanatory memorandum—
 व्याख्यात्मक स्मृतिपत्र ।
 Explanatory supplements—व्या-
 ख्यात्मक अनुपूरक ।
 Expletive—आलंकारिक, पूरक ।
 Explode—घड़ाके से फूटना, फूटना,
 विस्फोट होना ।
 Exploitation—दोहन, शोषण, उपयोग ।
 Explore—गवेषण करना
 Explosion—विस्फोट ।
 Explosive—विस्फोटक ।
 Explosive Act—विस्फोटक पदार्थ
 का विधान ।
 Export—निर्यात ।
 Exposure—प्रदर्शन खुलाव, अपावरण ।
 Express—(*v.*) अभिव्यक्त करना,
 (*adj.*) तुरत ।

Express delivery—तुरत वितरण ।
 Expression—अभिव्यक्ति, व्यंजक, पद,
 पदावली ।
 Ex-proprietary—गत स्वामित्व ।
 Ex-proprietary tenant—गतस्वामित्व
 काशतकार ।
 Expulsion—निष्कासन, वहिष्करण ।
 Ex-soldier—भूतपूर्व सैनिक ।
 Ex-student—भूतपूर्व छात्र ।
 Ex-teacher—भूतपूर्व अध्यापक ।
 Ex-tenant—भूतपूर्व आसामी ।
 Extension—विस्तार, व्याप्ति, फैलाव ।
 Extension of leave—छुट्टी बढ़ाना ।
 Extension of load—भार-वृद्धि ।
 Extension of post—पदकाल-वृद्धि ।
 Extension of Time—समय-वृद्धि ।
 Extent of act—विधान का विस्तार ।
 Extent of jurisdiction—अधिकार-
 क्षेत्र का विस्तार ।
 External—बाह्य, बाहरी ।
 Extinction—विलोप, समाप्ति ।
 Extinguishment and Extinction of
 right—अधिकार की समाप्ति और
 लोप ।
 Extinguisher, fire—अग्निप्रशामक ।
 Extortion—अकपर्षण ।
 Extra—अतिरिक्त ।
 Extra cost—अतिरिक्त लागत ।
 Extra curriculum activities—पाठ-
 नेतर कार्य ।
 Extracts—उद्धरण, अवतरण, सार,
 सत्व, अर्क, निष्कर्ष ।
 Extradition—प्रत्यर्पण, (विदेशी अपरा-
 धियों को) देश को लौटाना ।
 Extrados—बहिःस्तर ।
 Extra Municipal—नगरपालिका के
 बाहर ।
 Extra mural—मिस्तिवाह्य, जेल के
 बाहर का ।
 Extraneous—बाहरी ।
 Extraneous duties—अतिरिक्त
 कर्त्तव्य ।
 Extraordinary—असाधारण ।
 Extraordinary leave—असाधारण
 छुट्टी ।
 Extraordinary leave without
 pay—बिना वेतन की असाधारण
 छुट्टी ।
 Extraordinary pension—असाधारण
 पेंशन ।

Extra-statutory—कानून के बाहर का, विधि बाह्य ।
 Extremist—उग्रवादी, चरमपंथी ।
 Exudation—स्राव, पसीना ।
 Eye & hook—तुकमा और हुक, छेद और हुक ।

F

Fabric—बनावट, वस्त्र, कपड़ा ।
 Face value—प्रत्यक्ष मूल्य ।
 Factory—कारखाना, फैक्टरी ।
 Faculty—मनःशक्ति, संकल्प ।
 Faculty (Arts)—साहित्यादि संकाय ।
 Faculty (Education)—शिक्षा संकाय ।
 Faculty (Law)—विधि संकाय ।
 Faculty (Medicine)—चिकित्सा संकाय ।
 Faculty (Science)—विज्ञान संकाय ।
 Fade—मुरझाना ।
 Faecal discharges—मलत्याग ।
 Faeces—मल, विष्ठा ।
 Failed—असफल ।
 Failure—चूक, असफलता ।
 Faint—फीका, मंद, हल्का ।
 Faint compliment—हल्की प्रशंसा ।
 Fair average quality—उचित औसत किस्त ।
 Fair Copy—सुवाच्य प्रतिलिपि, साफ कापी ।
 Fair letter—परिष्कृत पत्र ।
 Fair—मेला ।
 Falange—अग्नीव ।
 Fall—प्रपात, पतन, अवपात ।
 Fallow—परती, हलका लाल ।
 False entries—झूठे इन्द्रराज ।
 False personation—छद्म धारण ।
 Familiarise—से परिचित करना ।
 Family—परिवार ।
 Family arrangement—पारिवारिक समझौता ।
 Family Pension—परिवार निवृत्ति-वेतन ।
 Famine code—दुर्भिक्ष संहिता ।
 Famine duty—दुर्भिक्ष ड्यूटी, दुर्भिक्ष कर्त्तव्य ।
 Famine programme—दुर्भिक्षकार्यक्रम ।
 Famine project—दुर्भिक्ष योजना ।
 Famine relief—दुर्भिक्ष सहायता ।
 Fan, ceiling—छत का पंखा ।
 Fan, Exhaust—रिक्तकर पंखा ।
 Fan, light—हलका पंखा, डाट के ऊपर का रोशनदान ।

Fan, table—मेज का पंखा ।
 Farar—फरार, भगा हुआ ।
 Farcy—जहरवाद ।
 Fare-Ferry—भाड़ा घाट ।
 Fast—तेज, तीव्र, अनशन ।
 Fasten—बाँधना ।
 Fastening—बंधन ।
 Fatigue cap—किशती टोपी ।
 Fatigue duty—श्रम-दंड ।
 Fault—दोष, चूक ।
 Fault-finding—दोषान्वेषण, दोष निकासना ।
 Fault of style—शैली की त्रुटि ।
 Faulty—दोषपूर्ण, सदोष ।
 Favourable—अनुकूल, माफिक ।
 Federal Railway Authority—संघीय रेलवे प्राधिकारी ।
 Federation—संघ ।
 Fee certificate—शुल्क प्रमाण-पत्र ।
 Feeder—पोषक ।
 Feeder channel—पोषक नाली या धारा ।
 Feeder road—पोषक सड़क ।
 Feeder well—पोषक कूप ।
 Feed Pump Attendant—फीड पम्प परिचारक ।
 Fees—फीस, शुल्क ।
 Fees, Admission—प्रवेश शुल्क ।
 Fees, Athletic—खेल कसरत संबंधी शुल्क ।
 Fees, Boarding House—छात्रावास शुल्क ।
 Fees book—फीस रजिस्टर ।
 Fees, Conveyance—यान शुल्क ।
 Fees, Delegacy—प्रतिनिधित्व शुल्क ।
 Fees, Examination—परीक्षा शुल्क ।
 Fees, Games—खेल शुल्क ।
 Fees, Hostel—छात्रावास शुल्क ।
 Fees, Ink—मसी शुल्क ।
 Fees, Laboratory—प्रयोगशाला शुल्क ।
 Fees, Library—पुस्तकालय शुल्क ।
 Fees, Medical—चिकित्सा शुल्क ।
 Fees, Membership—सदस्यता शुल्क ।
 Fees, Music—संगीत शुल्क ।
 Fees, Readmission—पुनःप्रवेश शुल्क ।
 Fees, Recreation—मनोरंजन शुल्क ।
 Fees, Retotaling—पुनर्योग शुल्क ।
 Fees, Scrutiny—सूक्ष्मपरीक्षा शुल्क ।
 Fees, Tuition—पढ़ाई शुल्क ।
 Felling (timber)—(वृक्ष) गिराना ।

Fellowship—शिक्षावृत्ति ।
 Female—महिला, जनाना, स्त्री, मादा ।
 Feminine style—स्त्रियोचित शैली ।
 Fence—घेरा, चहारदीवारी, बाड़, कटघरा, जंगला ।
 Fencing—पटेबाजी, वनैती, बाड़ लगाना ।
 Fenestra—गवाक्ष, झरोखा ।
 Ferro-gallic—फैरो गैलिक ।
 Ferro-paper—फैरो कागज ।
 Ferro-prussiate—फैरो प्रूशियेट ।
 Ferrotyping apparatus machine—फरोटाइप उपकरण मशीन ।
 Ferro-typer—नक्शा छापनेवाला ।
 Ferrule—जोड़चूड़ी ।
 Ferry—घाट ।
 Fertiliser—खाद ।
 Fetters—बेड़ी ।
 Fibrin—फाइब्रिन ।
 Field—खेत, मदान ।
 Field book—खसरा, क्षेत्र-पंजी ।
 Figure—अंक, आकार, आकृति ।
 File—(१.) मुकदमा दायर करना; दाखिल दफ्तर करना, मिसिल में नत्थी करना; (२.) मिसिल ।
 File a suit—मुकदमा दायर करना ।
 File board—मिसिल पुट्टा ।
 File book of circulars—गश्ती चिट्ठियों की फाइल ।
 File cover—मिसिल आवरण ।
 File Register—मिसिल पंजी ।
 Filing of documents—मुकदमे में कागजात दाखिल करना ।
 Filled—पूरित ।
 Fillet—फीता, चपती, पट्टी ।
 Filling—भराई; भरना ।
 Film—फिल्म ।
 Film Advisory Committee—चल-चित्र परामर्शदात्री समिति ।
 Final—अन्तिम ।
 Final bell—आखिरी घंटी, अन्तिम घंटी ।
 Finality—पूर्णता, अंतिमता ।
 Final payment—अन्तिम भुगतान ।
 Final statement of expenses and savings—अधिक व्यय और बचत का अन्तिम विवरण ।
 Finally decided—अंतिम रूप से निपटारा गया, अंतिम रूप से निर्णित ।
 Finance—वित्त ।
 Finance Committee—वित्त समिति ।
 Financial—वित्तीय ।

Financial Hand-book—वित्तपुस्तक ।	Fixed for hearing—सुनवाई या समा- अंत के लिये नियत की गई ।	Foregoing—पूर्वगत, पूर्ववर्ती ।
Financial irregularity—वित्तीय अव्यवस्था ।	Fixed rate tenant—नियत दर कृषक या असाती ।	Foreign articles—विदेशी वस्तु ।
Financial power—वित्तिक शक्ति ।	Fixtures—स्थावर, स्थायक ।	Foreign currency—विदेशी मुद्रा, विदेशी चल-मुद्रा ।
Financial year—वित्त वर्ष ।	Flag "A"—झंडी 'क' ।	Foreigner—विदेशी ।
Finding—निर्णय, तजवीज, निष्कर्ष ।	Flag staff—वज्र-दंड, पताका डंडा ।	Foreign law—विदेशी कानून ।
Finding in issues remitted—बड़ी अदालत द्वारा छोटी अदालत को भेजे हुये विवाद-विषयों पर तजवीजें ।	Flake—पपड़ी, संस्तर, जाला ।	Foreign service—विदेशी सेवा ।
Fine—अर्थदण्ड, जुर्माना ।	Flat—चपटा, सपाट ।	Foreman—फोरमैन ।
Fine line—बारीक रेखा, सूक्ष्म रेखा ।	Flea—पिंस्सू ।	Foreman of jury—जूरी का पंच ।
Finger Print Bureau—अंगुलि छाप च्युरो या दफ्तर ।	Float—तरिदा, तिरौंदा, पीपा, तुंबी ।	Foremost—अग्रतम, सब से आगे ।
Final—शिखर, कलश, स्तूपिका ।	Floation—कर्जा चालू करना, प्लवन ।	Forenoon—दोपहर से पहले, पूर्वाह्न ।
Fire-alarm—आग लगने की चेतावनी ।	Floation debt—अल्पकाल-ऋण ।	Forensic—न्यायालय-सम्बन्धी, अदालती ।
Fire-brick—अग्निसह ईंट ।	Flogging—कोड़े लगाना, वेत लगाना ।	Forest—जंगल, वन ।
Fire Brigade—दमकल-वाहिनी ।	Flood—बाढ़, सैलाब ।	Forfeit—जब्त हो जाना ।
Fireman—फायरमैन ।	Flood relief—बाढ़ पीड़ितों की सहायता ।	Forfeiture—जब्त, अपवर्तन ।
Fireplace—चूल्हा, आतिशदान ।	Floor—फर्श, मंजिलें ।	Forge—(v.) गढ़ना, जालसाजी करना; (n.) भट्टी ।
Fire-proof safe—अग्निसह तिजोरी ।	Flow and Lift Irrigation—बहाव और उठान की सिंचाई ।	For general information—सर्व- साधारण की सूचना के लिये ।
Fire service—दमकल सेवा ।	Flow Irrigation—बहाव की सिंचाई ।	Forgery—जाल, जालसाजी, कूट-रचना ।
Fire Station Officer—दमकल स्टेशन अधिकारी ।	Fluctuate—घटना-बढ़ना ।	For information—सूचनायें ।
Fireworks—आतिशवाजी ।	Flukes—फाल, पर्णाम ।	Fork—खाना खाने का कांटा, दुशाख ।
Firm—कोठी, व्यवसाय संघ ।	Flume—नालिका ।	Formal—औपचारिक ।
First aid—प्रारम्भिक या प्राथमिक उपचार ।	Flush—बहाव, संप्रवाह ।	Formaldehyde—फॉर्मल्डीहाइड, एक प्रकार का अल्कोहॉल ।
First appeal from order—आज्ञा की पहली अपील ।	Flush latrine—बहाव पैखाना ।	Formality—औपचारिकता ।
First application—प्रथम प्रार्थना-पत्र ।	Flyproof—मक्खी रोक ।	Formal order—औपचारिक आदेश ।
First floor—पहली मंजिल ।	Focus—नाभि ।	Formal sanction—औपचारिक मंजूरी ।
Firsthand—प्रत्यक्ष, प्रथम ।	Folio—पन्ना ।	Formation—रचना, बनावट, निर्माण ।
First Information Report—प्रार- म्भिक सूचना या रपट, रपट इन्तिदाई ।	Following—नीचे लिखा हुआ, निम्न- लिखित ।	Form of oath or affirmation— शपथ या सत्योक्ति का रूप ।
Fiscal—राजकोषीय ।	Foolscap—फुलसकेप ।	Form—फार्म, प्रपत्र ।
Fisheries—मीन क्षेत्र ।	Foot—फुट, पैर ।	Forms, stock book of—प्रपत्रों की संचय पुस्तक ।
Fitness—योग्यता ।	Foot and mouth Disease—खुरपका मुखपका ।	Form, standard—मानक रूप ।
Fitness Certificate—स्वस्थता-पत्र ।	Footing—पांव रखने की जगह, नौव, दुनियाद ।	Form, tender—टेण्डर का फार्म, निविदा प्रपत्र ।
Fitness for further advancement— अधिक उन्नति के लिये योग्यता ।	Forage cap—फौजी टोपी, फारेज टोपी ।	Formula—सूत्र, फारमूला ।
Fitter—निस्त्री ।	For approval—मंजूरी के लिये ।	For necessary action—आवश्यक कार्यवाही के लिये ।
Fix—निश्चित करना, नियत करना, स्थिर करना ।	Force—बल ।	Forthcoming—आने वाला, आगामी ।
Fix a date—दिनांक निश्चित करना, तिथि स्थिर करना ।	Force majeure—दुर्घटन शक्ति, दैवी आफत ।	For the preparation of the esti- mate of cost—लागत का तखमीना बनाने के लिये ।
Fixation—स्थिरीकरण, स्थिरीकरण ।	For consideration—विचारार्थ ।	Fortnight—पक्ष, द्वासप्तह ।
Fixation of pay—वेतन स्थिर करना, वेतन निर्धारण ।	For disposal—निपटारे के लिये ।	Fortnightly—पार्थिक, द्वासप्ताहिक ।
Fixed Deposit—आवधिक जमा, नियत जमा ।	Forecast—पूर्वानुमान ।	Fortnightly statement—पार्थिक विवरण ।
	Forecast of stamps—स्टाम्पों का पूर्वानुमान, मुद्राओं का पूर्वानुमान ।	Forum—क्षेत्र, स्थल, वाक्पीठ ।
	Foreclosure—मोचन निषेध ।	Forwarded—अग्रप्रेषित ।
	Foreclosure of mortgage—बंधक मोचन-निषेध ।	
	Fore-end—अगला सिरा ।	

Forwarding note—अग्रप्रेषण टिप्पणी ।
 Foundry—ढलाई घर ।
 Fountain—उत्स्रोत, फुहारा ।
 Fraction—भिन्न ।
 Frame—ढाँचा, चौखटा ।
 Framing of issues—तनकीह कायम करना, विवाद प्रश्नों का स्थिर करना ।
 Fraud—धोखा, कपट, जालसाजी ।
 Fraudulent—कपटपूर्ण, कपटी ।
 Free board—मुफ्त खाना, निःशुल्क भोजन ।
 Free of charge—निःशुल्क, मुफ्त ।
 Freeship—फीस माफ, निःशुल्कता ।
 Free of rent—किराया मुक्त ।
 Free Passage—निःशुल्क यात्रा ।
 Freight—माल भाड़ा, माड़ा ।
 Frequency—वारंवारता, आवृत्ति ।
 Friction—रगड़, घर्षण ।
 Fricze—चित्रवल्लरी ।
 Fringe—तटीय प्रांत, उप्रांत ।
 From time to time—समय-समय पर ।
 Frontispiece—मुख चित्र ।
 Fuel allowance—ईंधन भत्ता ।
 Fugitive—भगोड़ा, फरार ।
 Fugitive Offender—भगोड़ा या फरार अपराधी ।
 Fulcrum—टेक, सहारा, आलंब ।
 Full bench—पूर्ण पीठ ।
 Full particulars—पूरा व्योरा, सारा हाल ।
 Full supply level—पूर्णप्रदाय स्तर ।
 Function—क्रिया, कार्य, काम ।
 Functus officio—अभारमुक्त ।
 Fundamental guide book—मौलिक पथ-प्रदर्शनी पुस्तक ।
 Fundamental rules—मौलिक नियम, आधारभूत नियम ।
 Fund, Provident—निर्वाह-निधि ।
 Furlong—फर्लांग ।
 Furlough—छुट्टी, रुखसत ।
 Furnish (security)—जमानत दाखिल करना ।
 Furniture—फर्नीचर, उपस्कर, साज ।
 Further action—आगे कार्रवाई ।
 Further charge—अधिक भार ।
 Further information—अधिक जानकारी ।
 Fuse—पयज, फलीता, संगलक ।
 Future—भविष्य ।

G

Gable—बलभी, त्रि अंकी ।
 Gallery—दीर्घा, वीथि ।
 Gallows—फाँसी, फाँसी का तख्ता ।
 Galvanized—जस्तीकृत ।
 Galvanized wire—जस्ती तार ।
 Gambling—जुआ, घूत ।
 Game Laws—शिकार कानून, आखेट कानून ।
 Games—खेल, शिकार, आखेट ।
 Game fee—खेल शुल्क ।
 Gang hut—श्रमिक-समूह का झोपड़ा ।
 Garage—मोटरखाना ।
 Gas hand-grenades—गैस के हथगोले ।
 Gate—फाटक, द्वार, कपाट ।
 Gate book—फाटक पंजी, फाटक वही ।
 Gatekeeper—द्वारपाल, दरवान ।
 Gauge—गेंज, मापक, मापी ।
 Gazette—गजट, राजपत्र ।
 Gazetted establishment—राजपत्रित स्थापना ।
 Gazette, Extraordinary—असाधारण गजट या राजपत्र ।
 Gazetted officers—गजट्टेड अफसर, राजपत्रित अधिकारी ।
 General—सामान्य, साधारण ।
 General and special powers of attorney—सामान्य और विशेष प्रतिनिधि पत्र ।
 General application—सामान्य प्रयोग ।
 General letter—सामान्य चिट्ठी ।
 General Manager—जनरल मैनेजर, महा प्रबंधक ।
 General power—सामान्य अधिकार ।
 General Provident Fund—सामान्य निर्वाह-निधि ।
 General rules—सामान्य नियम ।
 General Rules, Civil—दीवानी के सामान्य नियम ।
 General Rules, Criminal—फाँजदारी के सामान्य नियम ।
 General Science—सामान्य विज्ञान ।
 General sequence—सामान्य अनुक्रम ।
 Generating station—विजलीघर ।
 Generation of energy—ऊर्जा का उत्पादन ।
 Generator—जनक, जनित्र ।
 Gentlemen of the jury—सन्मगण ।
 Geological Survey—भू-विज्ञान सर्वेक्षण ।

Geologist—भू-विज्ञानविद्, भूवैज्ञानिक ।
 Germ—जीवाणु ।
 G. I.—भारत सरकार ।
 Gift—दान, उपहार, भेंट ।
 Gift of movable property—चल-सम्पत्ति का दान ।
 Girder—गाटर, गर्डर ।
 Girth—लपेट, घेरा ।
 Given under my hand and seal of the Court—मेरे हस्ताक्षर और अदालत की मोहर से दिया गया ।
 Glass—शीशा, काँच ।
 Glazed—चमकदार, चमकाया हुआ ।
 Glue—सरेस ।
 G. O.—सरकारी आज्ञा ।
 Gold lace—गुनहला फीता ।
 Good behaviour—अच्छा चलन, नेक चलनी, सदाचरण, सद्ब्यवहार ।
 Good faith—नेकनियती, सद्भाव ।
 Goods—माल, सामान, मांडक ।
 Goods train—मालगाड़ी ।
 Goodwill—सद्भावना, सुनाम, कीर्तिस्वा ।
 Govern—शासन करना, हुकूमत करना ।
 Governance—शासन ।
 Governed—शासित ।
 Governed by clause—अमुक धारा के अधीन ।
 Governing Body—शासी निकाय या समा ।
 Government—सरकार, शासन ।
 Government advocate—सरकारी वकील, सरकारी अधिवक्ता ।
 Government affairs—राजकाज, राजकार्य, सरकारी काम ।
 Government appeal—सरकारी अपील, गवर्नमेन्ट अपील ।
 Government building—सरकारी भवन, सरकारी इमारत ।
 Government of India Act—भारत सरकार विधान, गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट ।
 Government order—सरकारी आज्ञा ।
 Government pleader—सरकारी वकील ।
 Government Promissory Notes—सरकारी वचन पत्र ।
 Government Railway Police—गवर्नमेन्ट रेलवे पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस, जी० आर० पी० ।
 Government resolution—सरकारी

निश्चय, राज-निश्चय ।
 Government servants—सरकारी
 नौकर, राज कर्मचारी ।
 Government studbull—सरकारी
 सांड ।
 Governor—गवर्नर, राज्यपाल ।
 Governor General—महा राज्यपाल ।
 Governor General in Council—
 सपरिषद् महा राज्यपाल ।
 Grace marks—अनुग्रहार्क ।
 Gradation list—पदक्रम सूची ।
 Grade—कोटि, वर्ग, श्रेणी, दर्जा ।
 Graded—कोटिवद्ध, क्रमवद्ध ।
 Grade promotion—कोटि वृद्धि ।
 Grading—कोटिकरण ।
 Gradient—ढाल, क्रमिकता ।
 Graduation—स्नातकीकरण ।
 Grain godown—अन्न गोदाम, गल्ला
 गोदाम ।
 Grain products—अन्न सेवने हुए पदार्थ ।
 Grain store—अन्न स्टोर, अन्न कोष्ठा-
 गार ।
 Grand total—कुल जोड़, पूर्ण योग ।
 Grant—अनुदान ।
 Grant, Attendance—उपस्थिति अनु-
 दान ।
 Grant, Boarding—छात्रावास अनु-
 दान ।
 Grant, Building—भवन अनुदान ।
 Grant, cadet—कैडेट अनुदान, वालवीर
 अनुदान ।
 Grant, Fixed—नियत अनुदान ।
 Grant, Furniture and equipment—
 उपस्कर और सज्जा अनुदान ।
 Grant-in-aid—सहायक अनुदान ।
 Grant, Interim—अंतरिम अनुदान ।
 Grant, Maintenance—अनुरक्षण
 अनुदान ।
 Grant of gratuity—ग्रेचुटी की
 मंजूरी, अनुग्रह-धन का अनुदान ।
 Grant of leave—छुट्टी का मंजूर
 होना, छुट्टी का स्वीकृत होना ।
 Grant, ordinary—साधारण अनुदान ।
 Grant, Preliminary—प्रारम्भिक
 अनुदान ।
 Grants, Recurring and Non-
 recurring—आवर्ती तथा अनावर्ती
 अनुदान ।
 Grant, Special—विशेष अनुदान ।
 Grant, staff—कर्मचारियों के लिये

अनुदान ।
 Grant, Supplementary—अनुपूरक
 अनुदान ।
 Graph—ग्राफ, लेखाचित्र ।
 Gratification—परितुष्टि ।
 Gratings—जाली ।
 Gratitude—एहसान, कृतज्ञता ।
 Gratuity—उपदान, आनुतोपिक ।
 Grave—गर्त, कब्र ।
 Gravel—कंकड़, बजरी ।
 Gravity—गुरुत्व ।
 Greasefree—चर्बीरहित, स्नेहमुक्त ।
 Greaset—ग्रीज लगानेवाला, ग्रीजर ।
 Great coat—बरान कोट, ओवर कोट ।
 Grid—जाल, जालक ।
 Griddle—(रोटी सेंकने का) तवा ।
 Grievous hurt—गहरी चोट ।
 Grindstone—सान, चक्की, जांता,
 सिल ।
 Grit—कंकड़, गिट्टी, बजरी ।
 Gross area—कुल क्षेत्रफल, कुल
 रकबा ।
 Gross commanded area—कुल
 अधिकेत्र ।
 Gross income—कुल आय ।
 Gross negligence—घोर उपेक्षा, घोर
 प्रमाद ।
 Gross receipt and expenditure—
 कुल आय और व्यय ।
 Gross salary—कुल वेतन ।
 Ground floor—पहिली या निचली
 मंजिल ।
 Grounds—मैदान, आचार ।
 Grounds of appeal—अपील के
 आचार ।
 Ground water supplies—भूमिगत
 जल पुञ्ज ।
 Group—समूह, समुदाय, दल, वर्ग,
 यूथ, गुट ।
 Group leader—दल नायक, ग्रूपलीडर ।
 Group of minor heads—लघुशीर्षक
 समुदाय ।
 Groyne—शेपिका, रोधिका ।
 Guarantee letter—गारन्टी पत्र,
 प्रत्याभूति पत्र ।
 Guard—गारद, रक्षी ।
 Guard book—रक्षक पुस्तक ।
 Guardian—संरक्षक, अभिभावक ।
 Guardianship—संरक्षकता ।
 Guidance—मार्ग-प्रदर्शन, निर्देशन ।

Guide—मार्ग प्रदर्शन करना, मार्ग-
 दर्शक ।
 Guilty—दोषी ।
 Gum—गोंद ।
 Gun barrel—बन्दूक की नली ।
 Gutter—मलनाली, मोरी ।
 Gymnasium—व्यायामशाला ।

H

Habitual—अभ्यासिक, अभ्यस्त, आदी
 Haemorrhagic Septecemia—
 गलघोंटू ।
 Half-fec—अर्धशुल्क, अर्ध फीस ।
 Half margin—अर्धोपान्त ।
 Half-yearly balance—छमाही शेप ।
 Half-yearly register of stock—
 सामान का छमाही रजिस्टर ।
 Hall—बड़ा कमरा ।
 Halt—विराम, अवस्थान ।
 Halting allowance—विराम-भत्ता ।
 Hammer—घन, हथौड़ा ।
 Hammerman—हथौड़िया ।
 Hand-book—पुस्तिका, गुटका ।
 Hand-cliffs—हथकड़ी ।
 Handicap—रूकावट, अवरोध ।
 Handicraft—हस्तशिल्प, दस्तकारी,
 शिल्पकारी, शिल्पकर्म ।
 Handling of animals—पशु प्रबन्ध ।
 Handrail—सीढ़ी का डंडा ।
 Hand receipt—दस्ती रसीद ।
 Hangar—विमानशाला, हवाई जहाज ।
 Harmony—मेल, ऐक्य, तालमेल,
 ताल-स्वर का मेल, सामंजस्य ।
 Harness—साज ।
 Harvesting—फसल काटना, कटाई ।
 Hasp—कुंडा, लच्छा ।
 Haunch of arch—डाट का पुट्टा ।
 Haversack—झोला ।
 Head—शीर्ष, मद्द ।
 Head Assistant—मुख्य सहायक ।
 Head clerk—प्रधान लेखक, मुख्य
 क्लर्क ।
 Head dress—टोप, पगड़ी ।
 Head, Major—बृहत् (बड़ा) शीर्षक ।
 Head master—प्रधानाध्यापक ।
 Head Minor—लघुशीर्षक ।
 Head mistress—प्रधानाध्यापिका ।
 Head of account—लेखा शीर्षक ।
 Head of Department—विभागा-
 ध्यक्ष ।

Head of office—कार्यालयाध्यक्ष ।
 Head quarter—मुख्य केन्द्र, सदर मुकाम, मुख्यालय ।
 Head regulator—प्रधान नियामक ।
 Head rope—ऊपरी रस्सी ।
 Headway—प्रगति, अग्रगति ।
 Headworks—मुखरचना ।
 Health certificate—स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ।
 Hearing—सुनवाई, श्रुति, श्रवण ।
 Heater—तापक, ऊष्मक ।
 Heating—गरम करना, तापन ।
 Heat stroke—लू-लगना, तापाघात ।
 Height—ऊँचाई ।
 Helmet—लोहे का टोप, शिरस्त्राण ।
 Helminthic—कृमि संबंधी ।
 Hereby—इसके द्वारा ।
 Hereditary—पैत्रिक, मौखसी, आनु-वंशिक, वंशानुगत ।
 Herein—यहाँ ।
 Hereinafter—इससे आगे ।
 Her Excellency—परम श्रेष्ठ ।
 Hessian cloth—टाट ।
 Hexagon—षट्कोण षड्भुज ।
 High Court—उच्च न्यायालय ।
 High Court of Judicature—हाईकोर्ट ।
 Higher authority—उच्चतर प्राधिकारी ।
 High flood level—बाढ़ सीमा ।
 High School Examination—हाई-स्कूल परीक्षा ।
 High tension—अति तनाव ।
 Highway—राजमार्ग, मुख्यमार्ग ।
 Hill allowance—पहाड़ का भत्ता ।
 Hinge—कोर, कब्जा ।
 Hip rafter—काठी कड़ी ।
 Hire—किराया, भाड़ा, भाटक ।
 Hire purchase—भाटक-क्रय ।
 Hiring agreement—किराया संविदा पत्र ।
 His Excellency—परम श्रेष्ठ ।
 History—इतिहास ।
 History sheet—इतिवृत्त, वृत्त-पत्र ।
 History ticket—वृत्त-पत्र ।
 Hoe—कुदाल ।
 Holding cost—रोक रखने की लागत ।
 Holding—जोत, क्षेत्र, चक ।
 Holiday—छुट्टी ।
 Holiday, public—सार्वजनिक छुट्टी, सरकारी छुट्टी ।

Hollow—खोखला ।
 Homogeneous—एक-सा, तुल्य, सजा-तीय, समांग ।
 Honey comb work—जालीदार काम ।
 Honorarium—मानदेय ।
 Hon'ble—माननीय ।
 Honorific Prefixes—(नाम के पहले) सम्मानसूचक उपाधि ।
 Honours Courses—सम्मान पाठ्यक्रम ।
 Honorary—अवैतनिक ।
 Hood—छतरी, छज्जा ।
 Hook—काँटा, अंकुश ।
 Hoop iron—छरपट्टी पत्ती ।
 Horse allowance—घोड़े का भत्ता ।
 Horses fly—अश्वमक्षिका ।
 Horse power—अश्वशक्ति ।
 Horse stallion—बीजाश्व, वृषणाश्व, घुड़ साँड़ ।
 Hose pipe—चमड़े या रबड़ का नल, हौज नल ।
 Hosetops—होजटाप ।
 Hospital—चिकित्सालय, अस्पताल ।
 Hospital attendant—चिकित्सालय परिचर ।
 Hospital equipment—चिकित्सालय सज्जा, अस्पताल का साज-सामान ।
 Hospital leave—अस्पताली छुट्टी ।
 Hospital requisites—चिकित्सालय की आवश्यक वस्तुएँ ।
 Hostel—छात्रावास ।
 Hostel fees—छात्रावास शुल्क ।
 House rent—मकान का किराया ।
 House rent allowance—मकान-किराया भत्ता, किराया भत्ता ।
 Humane killer—सुगम वध यंत्र ।
 Hunger strike—भूख हड़ताल ।
 Hydrel colony—जल विजली-बस्ती ।
 Hydrel Commercial Engineer—जल विद्युत् वाणिज्य अभियन्ता ।
 Hydraulic—द्रवचालित ।
 Hydro—जल, पानी ।
 Hydro-electric—जल-विजली, जल-विद्युत्, पन-विजली ।
 Hydro-electric Engineer—जल-विजली अभियन्ता ।
 Hydro-electric grid—जलविद्युत् तार जाल, जल-विजली तार जाल ।
 Hydrological data—जल विज्ञान संबंधी वार्ते ।
 Hygiene—स्वास्थ्य-विज्ञान

Hyperbola—अतिपरवलय ।
 Hypotenuse—कर्ण (गणित) ।
 Hypothecation—दृष्टिबंधक ।
 Hypothesis—मूल कल्पना, परिकल्पना; प्रमेय, प्राक्कल्पना ।

I

I am directed to—मुझे निदेश हुआ है कि ।
 I am directed to enquire—मुझे अनुसंधान करने का निदेश हुआ है ।
 I am to add—मुझे यह भी लिखना है कि ।
 Identical—समरूप, सर्वसम ।
 Identification—पहिचान, शिनाख्त, अभिज्ञान ।
 Identify—पहिचान करना, शिनाख्त करना ।
 Idiocy—जड़ता, जड़बुद्धिता ।
 Idiot—जड़, जड़मति, जड़बुद्धि ।
 I have the honour to—भवन्निक ।
 I have the honour to say—सेवा में निवेदन है कि ।
 Illegal—अवैध, गैरकानूनी ।
 Illegible copy—अपाठ्य ।
 Illustration—निर्देशन, निर्देश-चित्र ।
 Image—प्रतिबिम्ब, प्रतिमा, विव ।
 Immaterial—असार ।
 Immediate—तात्कालिक, तत्काली, अविलंब ।
 Immerse—डुबाना, वोरना ।
 Imminent—सन्निकट, आसन्न ।
 Immoderate to large defect—मध्यम से लेकर अधिक कमी के साथ ।
 Immoral—अनैतिक ।
 Immoral traffic—स्त्रियों का भगाना और वेचना ।
 Immovable property—अचल सम्पत्ति ।
 Immunity—उन्मुक्ति ।
 Impersonation—प्रतिरूपण, पर रूप धारण ।
 Imprevious—अपारगम्य, अमेद्य, अप्र-वेश्य ।
 Implement—(v.) कार्यान्वित करना, (n.) साधन, उपकरण, औजार ।
 Implied—लक्षित, छिपा, अंतर्निहित ।
 Implied contract—अंतर्निहित संविदा ।
 Import—आयात ।
 Important—महत्त्वपूर्ण, जरूरी, आव-श्यक ।

Imposition—आरोपण ।	Incubation period—अंडा फूटने की अवधि ।	Indolence—सुस्ती, काहिली, आलस्य, अकर्मण्यता ।
Impound—अवरुद्ध करना ।	Incumbency—धारण, पदधारणकाल ।	Indoor patient—अंतरंग रोगी ।
Impounded document—अवरुद्ध लेखपत्र ।	Incumbent—धारक, पदस्थ ।	Induce—प्रेरित करना, लालच देना, प्रलोभन देना ।
Impracticable—अव्यावहारिक, अव्यवहार्य ।	Incur—व्यय करना ।	Induction—आगम, प्रेरण ।
Impressions—छाप, निशानी, चिह्न ।	Indecent to mention—उल्लेख करना अनुपयुक्त या अश्लील ।	In due course—यथासमय ।
Impressment—चलात् भरती ।	In default of—न देने के कारण, न अदा करने के कारण ।	Industrialist—उद्योगपति ।
Imprest—पेशगी, अग्रदाय ।	Indemnity Bond—क्षतिपूरण बंध ।	Industrialize—औद्योगीकरण, उद्योग-विकासन ।
Imprisonment—बंदीकरण, कैद, कारावास ।	Indent—मांगपत्र ।	Industrious—परिश्रमी, उद्योगी ।
Improved—उन्नत, सुधारा हुआ ।	Indent, Supplementary—अनुपूरक मांगपत्र ।	Industry—उद्योग ।
Improvise—(आवश्यकता पर) तुरन्त प्रवृत्त कर लेना ।	Independent—स्वतंत्र, स्वाधीन, आजाद ।	Inefficiency—अप्रगुणता, अकुशलता ।
In accordance with—के अनुसार ।	Index—अभिसूचक ।	Inertia—जड़ता, निश्चेष्टता ।
Inadequate—अपर्याप्त ।	Indian Air force—भारतीय वायु सेना ।	Inevitable payments—अपरिहार्य भुगतान ।
Inadvertantly—भूल से, असावधानी से, अनजाने ।	Indian and Colonial Divorce—भारतीय और औपनिवेशिक विवाह-विच्छेद ।	Inexact—अयथातथ, अशुद्ध ।
In anticipation—की उम्मीद में, की प्रत्याशा में, के भरोसे पर ।	Indian Arms Act—भारतीय शस्त्र-विधान ।	In exercise of the power conferred by—द्वारा दिए गये अधिकार को काम में लाते हुए, द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए ।
In anticipation of sanction—स्वीकृति की प्रत्याशा में, स्वीकृति की उम्मीद से ।	Indian Army Act—भारतीय सेना विधान ।	Infanticide—शिशुवध, शिशुहत्या ।
Inaugural—प्रतिष्ठापनिक ।	Indian Civil Service—भारतीय जनपद मृत्या ।	Infantile Leishmaniasis—बच्चों का कालाजार ।
In camera—बंद कमरे में ।	Indian Divorce Act—भारतीय तलाक विधान, भारतीय विवाह विच्छेद विधान ।	Infantry—पैदल सेना, पदाति ।
Incapable—अयोग्य, असमर्थ ।	Indian Etiquette—भारतीय शिष्टाचार ।	Infantry training—पैदल सेना की ट्रेनिंग, पैदल सेना शिक्षण ।
Incarcerate—कैद करना, जेल में बंद करना, जेल करना ।	Indian Evidence Act—भारतीय साक्ष्य विधान, कानून शहादत ।	Infection—छूत, संक्रमण, संक्रामण, संदूषण ।
In case of—के संबंध में, के मामले में ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Infectious jaundice of the dog—कुत्ते का संक्रामक पांडु रोग ।
Inch—इंच ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Inferior servant—अवर कर्मचारी ।
Incidental charges—प्रासंगिक व्यय ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Inferior Servants Establishment—अवर सेवक स्थापना ।
Incision—चीरा ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Infestation—पीड़ा, बाधा ।
Inclined—झुका हुआ, नत ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Infinitesimal—अत्यन्त छोटा, अतिलघु, अतिसूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म ।
Inclusive—को लेकर या मिलाकर, शामिल करके ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Infirmity—अशक्तता, दीर्घत्व ।
Income—आय, आमदनी ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Inflammable—ज्वलनशील, ज्वालालाग्नीही ।
Income-tax—आयकर ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Inflation—स्फीति ।
Incompliance with—का पालन करते हुए ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Influence—प्रभाव ।
In connection with—के सम्बन्ध में ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Infra—नीचे ।
In consequence—के फलस्वरूप, परिणामस्वरूप ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Infringe—अतिलंघन करना ।
Inconsistent—असंगत, अननुरूप ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Infringement—अतिलंघन ।
In continuation of—के सिलसिले में ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	In furtherance of a common cause—सार्वजनिक हित की उन्नति के लिए ।
Incorporate—निगमित करना, मिला लेना ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Ingredient—अंश, अंग, अवयव, उपादान ।
Incorporation—समावेशन, निगमन ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Ingress—प्रवेश, घुसना ।
Increase—वृद्धि, बढ़ती ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	Inherent—अन्तर्निहित ।
Increment—वैतन वृद्धि, वृद्धि ।	Indian Penal Code—भारतीय दंड-संहिता ।	

Initial pay—प्रारम्भिक वेतन ।	Instructor—शिक्षक, इन्स्ट्रक्टर ।	Intimation—सूचना ।
Initials—प्रथमाक्षरी, छोटे हस्ताक्षर ।	Instrument—करण ।	Intimation Book—सूचना पुस्तक ।
Injection—सुई लगाना, सूई ।	In supersession of—करते हुए ।	In toto—बिल्कुल, पूर्णतया, संपूर्णतः, पूरी तरह से ।
Injury report—क्षत का रिपोर्ट, आघात का रिपोर्ट ।	Insurance—बीमा ।	Intoxicating drug—मादक द्रव्य ।
Injury to records—कागजात की क्षति ।	Intangible property—अमूर्त संपत्ति ।	Intramural—भित्त भीतर, जेल के भीतर का ।
Inlet—प्रवेश द्वार ।	Integrity certificate—सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र ।	Introduction—प्रस्तावना, परिचय, आमुख ।
In lieu of—के बदले या स्थान में ।	Intelligence Test—बुद्धि-परीक्षण ।	Invalid—निर्बल, दुर्बल, असमर्थ, अशक्त, अमान्य, अवैध ।
Inmate—आवासी, रहनेवाला, रहैया ।	Intelligent—समझदार, बुद्धिमान् ।	Invalidate—अवैध करना, रद्द करना, अमान्य होना या करना ।
In moderate excess—कुछ वाजिबी से अधिक ।	Intend—विचार करना, इरादा करना ।	Invalid pension—असमर्थता की पेंशन ।
Inoculation—टीका ।	Intensity—तीव्रता ।	Inventory—सूची, तालिका ।
In partial modification—आंशिक संशोधन करते हुए ।	Inter alia—अन्य बातों के साथ-साथ ।	Inverse—प्रतिलोमी, उलटा ।
In proper form—उचित रूप में ।	Intercourse—समागम, संसर्ग, वृद्धि ।	Investigation of claims—दावों की जांच ।
Inquest—अन्वीक्षण ।	Interest—सूद, व्याज, हित, स्वार्थ ।	Investment—रूपया लगाना, निवेश निवान, लगा धन ।
Inquiry—जांच ।	Interest-bearing securities—व्याजी-सरकारी हुंडियाँ ।	Invidious—द्वेषजनक ।
Insane—विक्षिप्त, पागल, उन्मत्त, उन्मादी	Interests of Public Service—सार्वजनिक सेवा के हित ।	Invoice—बीजक ।
Insanity—विक्षिप्तता, पागलपन, उन्माद ।	Interim—अंतरिम ।	Ipsa facto—तथ्यतः, स्वतः ।
Inscription—शिलालेख ।	Interlineation—पंक्ति मध्यलेख, सतरों के बीच लिखित, पंक्तियों के बीच लिखना ।	Irksome—थकाऊ, कठिन, दुःखद, भारी, अप्रिय, नागवार ।
Insemination—सेचन, गर्भाधान ।	Intermediary—विचौलिया, मध्यम, मध्यवर्ती ।	Irrecoverable—वसूल न होने के योग्य, नाकाविल वसूल, अशोध्य, अपूर्णाय ।
Insertion—अन्तर्वेश, बीच में रखना ।	Intermediate—बीच का, मध्यवर्ती, माध्यमिक, मध्यस्थ ।	Irregularity—अनियमितता, विषमता ।
Insignificant—उपेक्ष्य ।	Intermediate forecast—बीच का पूर्वानुमान ।	Irrelevant—असंबद्ध, विसंगत ।
Insolvency—दिवाला ।	Intermittent cultivation—आंतरायिक खेती ।	Irrespective of—विना इस बात के विचार के ।
Insolvent—दिलाविया ।	Intermediary—विचौलिया, मध्यम, मध्यवर्ती ।	Irrigation—सिंचाई ।
Inspection of treasuries—खजानों का मुआयना या निरीक्षण, कोषागारों का निरीक्षण ।	Intermediary—विचौलिया, मध्यम, मध्यवर्ती ।	Irrigation Branch—सिंचाई शाखा ।
Inspection report—मुआयना रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट ।	Intermediate forecast—बीच का पूर्वानुमान ।	Isolated—विच्छिन्न ।
Inspectorate—निरीक्षक वर्ग, निरीक्षण-कार्यालय, निरीक्षणालय ।	Intermittent cultivation—आंतरायिक खेती ।	Isolation—मृथक्करण, अलगाव ।
Inspectorate of Stamps—स्टाम्प निरीक्षणाधिकारी ।	Interpretation—व्याख्या, अर्थ-निर्णय, भाषांतर, निर्वचन ।	Isometric—सममितीय, सम-माप, समायाम ।
Inspector General of Prison—जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल, महा कारा निरीक्षक ।	Interrogate—प्रश्न करना, पूछ-ताछ करना ।	Issue of Commission—कमीशन जारी करना ।
Inspector of Jail Buildings—कारागृह निरीक्षक, जेल की इमारतों के इन्स्पेक्टर, जेल भवनों के निरीक्षक ।	Interrogatory—प्रश्नमाला ।	Issue price—जारी करते समय का मूल्य, निर्गम मूल्य ।
Inspectress—निरीक्षिका ।	Interrupt—रोकना, बाधा डालना, अवरोध करना ।	Item—मद्द ।
Instal—प्रतिष्ठापन करना ।	Interruption—विघ्न, अवरोध, बाधा ।	Iteration—पुनरुक्ति ।
Installation—संस्थापन ।	Inter-University—अन्तर्विश्वविद्यालय ।	Itinerating—गश्ती, सफरी ।
Instalment—किसत ।	Interval—अवकाश, अंतर, मध्यावकाश ।	
Instant attention—तत्काल ध्यान ।	Interview—मुलाकात, भेंट, साक्षात्कार ।	
Institution—संस्था ।	Intestate—इच्छा पत्र हीन ।	
Instruct—शिक्षा देना, सिखाना, अनुदेश देना ।	Intestinal—आंत्र, आंत्रिक ।	
Instruction—अनुदेश, सीख, शिक्षा, हिदायत ।	Intestinal contents—आंतों का अंतर्द्रव्य ।	
	In the alternative—विकल्प में ।	
	In the circumstances—इस परिस्थिति में ।	
	Intimate—प्रगाढ़, दिली, जिगरी, घनिष्ठ; (p.) सूचना देना, आगाह करना ।	

J

Jackarch—जैक मेहराव ।
 Jacket—जाकेट, मिरजई, कमरी ।
 Jail—बंधनागार, कारा, कारागार ।
 Jailor—कारापाल ।

Jaillor, Deputy—सहकारी कारापाल ।
 Jai, District—जिला कारागृह ।
 Jail premises—कारागृह का अहाता, कारोपान्त ।
 Jeep—जीप, एक प्रकार की मोटर गाड़ी ।
 Jerk—झटका ।
 Jet—बार, प्रवार, झुति ।
 Jetty—घक्का, घाट ।
 Job—काम, नौकरी, कार्य ।
 John's disease—पुराना कीटाणु, अतिसार ।
 Joinery—जुड़ाई ।
 Joining report—कार्यग्रहण रिपोर्ट ।
 Joining time—कार्यग्रहण अवधि ।
 Joint—(n.) जोड़, संधि, दर्ज; (adj.) संयुक्त ।
 Joint family property—संयुक्त कुटुंब संपत्ति ।
 Joint holding—संयुक्त जोत ।
 Joist—कड़ी ।
 Journal—पत्रिका, रोजनामचा, दैनिकी ।
 Judge—न्यायाधीश ।
 Judgment—निर्णय, फैसला, विवेक ।
 Judgment-Debtor—निर्णीत ऋणी ।
 Judge, Small Cause Court—अल्प-वाद न्यायालय के न्यायाधीश ।
 Judgment writer—निर्णय लेखक ।
 Judicature—न्यायालय ।
 Judicial—न्यायिक ।
 Judicial Authority—न्यायिक प्राधिकारी ।
 Judicial Commissioner—न्यायिक आयुक्त ।
 Judicial Committee of Privy Council—प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति ।
 Judicial investigation—न्यायिक जांच ।
 Judicial notice—न्यायिक अवगम, न्यायालय द्वारा किसी वाद को स्वयं विचार में लेना ।
 Judicial Proceeding—न्यायिक कार्य-वाही ।
 Judicial separation—न्यायिक विवाह-विच्छेद ।
 Judiciary—न्यायांग, न्यायपालिका ।
 Jumble—एक में सटाकर ।
 Junior electrician—अवर विजली मिरची ।
 Junior grade clerk—अवर श्रेणी के लिपिक ।

Junction—संगम, जंक्शन ।
 Jurisdiction—अधिकार-क्षेत्र, क्षेत्राधिकार ।
 Jurisdictional purposes—अधिकार-क्षेत्रीय प्रयोजन ।
 Jurisdictional value—अधिकार-क्षेत्रीय मूल्य ।
 Jury—जूरी ।
 Justice—न्याय ।
 Justice of Peace—शांति न्यायाधिपति ।
 Justification—तर्क-संगति ।
 Juvenile—अल्पवयस्क, किशोर ।
 Juvenile offender—अल्पवयस्क या किशोर अपराधी ।

K

Kala-azar—कालाजार ।
 Kanungo competitive examination—कानूनगो प्रतियोगिता परीक्षा ।
 Keenest critic—तीव्रतम आलोचक ।
 Keeper—पालक ।
 Keeping—संरक्षण, पालन ।
 Keep the peace—शान्ति पालन करना, शान्ति रखना ।
 Keep with file—फाइल में रखिये ।
 Kettle—देगची, पतीली, केटली ।
 Key—कुंजी, ताली ।
 Keystone—चावी पत्थर, संवान प्रस्तर ।
 Kidnap—हरण करना ।
 Kidnapping—हरण ।
 Kilowatt—किलोवाट ।
 Kind of leave—छुट्टी का प्रकार ।
 Kindly acknowledge receipt—कृपया पाने की सूचना दें, कृपया रसीद से सूचित कीजिये ।
 King Post—मुख्य स्तंभ ।
 Kink—ऐंठ, ऐंठन ।
 Kit—यात्रा का सामान, सामान का झोला ।
 Kit bag—किट थैला, सिपाही के सामानों का थैला ।
 Knicker—नीकर, निकर, घुटना ।
 Knicker-bockers—पतलून ।
 Knob—टीला, घुंडी, लट्टू ।
 Knot—गाँठ, गिरह ।
 Knowledge—ज्ञान, जानकारी ।

L

Label—चिप्पी, नामपत्र ।
 Laboratory Assistant—प्रयोगशाला सहायक ।

Laboratory Attendant—प्रयोगशाला सेवक ।
 Labour—श्रम, श्रमिक-वर्ग, मजदूर, कामगार ।
 Labour, Hard—कड़ा परिश्रम, सख्त मशकत ।
 Lacerate—विदीर्ण, चिरा-फटा ।
 Lady Principal—प्रधान आचार्याणी ।
 Lake—झील ।
 Lance bucket—बल्लम आचार ।
 Land Acquisition Officer—भूमि प्राप्ति अधिकारी ।
 Landed property—भू-सम्पत्ति ।
 Land holder—भूमिधारी, क्षेत्रपति, भूस्वामी ।
 Land improvement loans—भूमि सुधार ऋण ।
 Land lord—भूस्वामी, जमींदार ।
 Land Record—भू-अभिलेख ।
 Land Record Clerk—भू-अभिलेख लिपिक ।
 Land Record Department—भू-अभिलेख विभाग ।
 Land Record Manual—भू-अभिलेख-सार-संग्रह ।
 Land revenue—भू-राजस्व, माल-गुजारी ।
 Land Revenue Act—ऐक्ट मालगुजारी, भूराजस्व अधिनियम ।
 Lane—गली ।
 Language—भाषा ।
 Lantern—लालटन ।
 Lapse—(v.) व्यपगत होना, वीत जाना; (n.) लय, वीतना, चूक, कमी ।
 Lapsed—गतावधि, समाप्त ।
 Larder—खाद्य-सामग्री मंडार ।
 Large—बृहत् ।
 Last pay certificate—अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र ।
 Latch—अर्गला, सिटकनी ।
 Late—स्वर्गीय ।
 Lathe—खराद ।
 Latitude—अक्षांश, अक्षांतर ।
 Latter—पश्चादुक्त ।
 Lattice—जालक, झिलमिली ।
 Lavatory—संडास, पाखाना, शौचालय ।
 Law—विधि, कानून, नियम ।
 Lawful—विधि संगत, वैध ।
 Lawful assembly—विधि या संगत वैध समा ।

Lawful custody—विधिसंगत या वैध संरक्षण ।	Leave, privilege—रियासती छुट्टी ।	Lettered slip—अक्षरांकित पर्चा ।
Lawful exercise of powers—अधिकारों का विधिसंगत प्रयोग ।	Leave, quarantine—संगरोध छुट्टी ।	Letter, forwarding—प्रेषणपत्र ।
Law of succession—उत्तराधिकार विधान ।	Leave, recess—विश्राम छुट्टी ।	Letter of allotment of shares in any company—किसी कम्पनी में अंश नियतन पत्र ।
Law suit—मुकदमा ।	Leave, reserve—रिजर्व, छुट्टी ।	Letter of credit—उधार-पत्र, साख-पत्र ।
Lawyer—विधिज्ञ, वकील ।	Leave salary—छुट्टी का वेतन ।	Letter of licence—अनुज्ञप्ति पत्र ।
Lay down—लिटाना, पेश करना, त्यागना ।	Leave, study—अध्ययनार्थ छुट्टी ।	Letters of administration—प्रशासन ।
Layout—अभिन्यास, विन्यास, खाका ।	Leaving certificate—विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र ।	Letters patient appeal—राजदया अपील ।
Layout plan—नकशा ।	Ledger—खाता वही, खाता ।	Level—स्तर, तल; (<i>adj.</i>) चौरस, सम-तल, सपाट ।
Lead—(<i>n.</i>) सीसा, गोली; (<i>v.</i>) आगे जाना, नेतृत्व करना ।	Leech—जोंक ।	Level-books—समतल-माप पुस्तिका ।
Leading—प्रमुख, अग्रज, प्रधान, अगला ।	Leeward—हवा ओर दिशा ।	Level crossing—समपार ।
Leakage—च्यवन, दरार, क्षरण, टपकन ।	Legal—वैध, कानूनी, प्राविधिक ।	Levelling staff—तलेक्षण गज ।
Leakage of papers—कागजातों का बाहर मालूम होना ।	Legal advisor—कानूनी या विधि सलाहकार ।	Lever arm—उत्तोलक भुजा ।
Lease—पट्टा ।	Legal documents—कानूनी कागजात या लेख्य-पत्र ।	Leviabie—आरोग्य ।
Lease deed—पट्टा, पट्टानामा ।	Legal enactment—विधिक विधायन ।	Levied—आरोपित ।
Leasehold—पट्टेदारी ।	Legal expenses—न्याय व्यय, कानूनी खर्च ।	Levy—उगाही, उद्ग्रहण ।
Lease of Government building—सरकारी इमारतों का पट्टा ।	Legal grounds—विधिक कारण ।	Liability—दायिता, दायित्व, जिम्मेदारी ।
Lease of land—जमीन का पट्टा ।	Legality—वैधता ।	Liabile—उत्तरदायी, जिम्मेदार ।
Leave account—छुट्टी का लेखा ।	Legal practitioner—वकालत पेशा, अभिभाषक ।	Liable to disqualification—अयोग्य ठहराये जा सकने योग्य ।
Leave application—छुट्टी का प्रार्थना-पत्र ।	Legal Practitioner's Act—विधिवृत्तिक विधान ।	Liberal rain—अच्छी वर्षा ।
Leave application of Scholars—छात्रों का छुट्टी का प्रार्थना-पत्र ।	Legal practitioner's certificate stamps—विधि जीवी प्रमाण-पत्र मुद्रांक ।	Librarian—पुस्तकाध्यक्ष ।
Leave, casual—आकस्मिक छुट्टी ।	Legal proceedings—कानूनी कार्य-वाही ।	Library—पुस्तकालय ।
Leave, disability—असमर्थता की छुट्टी ।	Legal profession—वकालत, विधि वृत्ति ।	Lice—जूं ।
Leave due—छुट्टी वाजिब ।	Legal Remembrancer—विधि उद्बोधक ।	Licence fee—अनुज्ञप्ति शुल्क ।
Leave earned—अर्जित छुट्टी ।	Legatee—रिक्थी, रिक्थभागी ।	Licence, revocation of—अनुज्ञप्ति खंडन ।
Leave, ex-India—भारत से बाहर जाने की छुट्टी ।	Legislate—कानून बनाना, विधि बनाना ।	Licensed—लाइसेन्स प्राप्त ।
Leave, extraordinary—असाधारण छुट्टी ।	Legislation—कानून, विधान, विधिनिरमाण ।	Licensed stamp vendor—लाइसेन्स प्राप्त विक्रेता ।
Leave, hospital—अस्पताली छुट्टी ।	Legislative Assembly—विधानसभा ।	Licensed vendors—लाइसेन्सप्राप्त विक्रेता ।
Leave, maternity—प्रसूति छुट्टी ।	Legislative Council—विधान परिषद् ।	Licence-holder—अनज्ञाग्राही, लाइसेन्स-दार ।
Leave on average pay—औसत वेतन पर छुट्टी ।	Legislature—विधान मंडल ।	Licensing authority—अनुज्ञा-पत्र-दायक प्राधिकारी ।
Leave on full pay—पूरे वेतन पर छुट्टी ।	Legitimate—तर्कसंगत, वैध, औरस ।	Lien—ग्रहणाधिकार, पूर्वाधिकार ।
Leave on medical certificate—चिकित्सकीय प्रमाणपत्र पर छुट्टी ।	Legitimate dues—जायज मुतालबा, वैध प्राप्य ।	Lien, suspended—स्थगित ग्रहणाधिकार ।
Leave on private affair—निजी कार्यार्थ छुट्टी ।	Legitimate duty—न्याय कर्तव्य ।	Lien, suspension or termination or revival of—ग्रहणाधिकार का स्थगन, समापन या पुनर्प्रवर्तन ।
Leave on quarter average pay—चौथाई औसत वेतन पर छुट्टी ।	Leishmaniasis—कालाजार ।	Lieu of—के बदले ।
Leave preparatory to retirement—निवृत्तिपूर्व छुट्टी ।	Leper—कोढ़ी ।	Lieu of, in—के बदले, के स्थान पर ।
	Lessee—पट्टेदार पट्टाधारी ।	Life convict—आजीवन कैदी ।
	Lessor—पट्टादाता, पट्टाकर्ता ।	Life insurance policy, duty on—जीवन बीमा पॉलिसी पर शुल्क ।
	Less supply—कम पूर्ति ।	

Life licence—आजीवन अनुज्ञा-पत्र ।	Local board—स्थानीय बोर्ड, स्थानीय मंडल ।	Louver—झिलमिली ।
Life preservers—प्राणरक्षक, जान बचाने वाले ।	Local body—स्थानीय निकाय ।	Lower—निचला ।
Life sentence—आजीवन दंड ।	Local breeds—स्थानीय नस्लें ।	Lower Court—निचली अदालत, निचला न्यायालय ।
Life tenure—आजीवन भूधृति ।	Local cess—स्थानीयकर, अवकाव ।	Lower Division Assistant—अवर श्रेणी सहायक ।
Lift—लिफ्ट, उत्थापक ।	Local custom—स्थानीय रिवाज, दस्तूर-देही ।	Lower Grade Clerk—अवर श्रेणी क्लर्क ।
Lift irrigation—ढेकुल से सिंचाई, उठान सिंचाई ।	Local depot—स्थानीय डिपो ।	Lower Subordinate—अधस्तन, अधीनस्थ ।
Light—(<i>adj.</i>) हलका, लघु; (<i>n.</i>) उजाला, रोशनी ।	Local enquiry—स्थानीय जांच ।	Lowest rate in the month—मास का न्यूनतम भाव या मूल्य ।
Lightning conductor—तड़ित् संवाहक ।	Local fund—स्थानीय निधि ।	Low tension—न्यून तनाव, निम्न वोल्टता ।
Likely—संभावनीय ।	Local Government—स्थानीय सरकार ।	Lubricate—चिकनाना, तेल देना ।
Litigation—मुकदमेवाजी ।	Local head—स्थानीय प्रमुख ।	Lubricator—स्नेहक, तेलदान ।
Lime—चूना ।	Local locality—आसपास, पास-पड़ोस ।	Luggage—असबाब, सामान ।
Limestone—चूना पत्थर ।	Local limit—स्थानीय सीमा ।	Lump—पिंड, ढेला ।
Limit—सीमा, मर्यादा ।	Local management—स्थानीय प्रबंध ।	Lump cash rent—एकराशि नकद लगान ।
Limit and limitation of right—अधिकार की सीमा और अवधि ।	Local rate—स्थानीय दर ।	Lump sum—इकमुश्त रकम, एकराशि ।
Limitation—अवधि, सीमावध ।	Local Self-Government—स्थानीय स्वायत्त शासन ।	Lunatic—पागल, विक्षिप्त, उन्मत्त ।
Line—रेखा, सतर ।	Local thunder showers were experienced all over the province—सारे प्रान्त में बिजली की गरज के साथ स्थानिक वर्षा हुई ।	Luxury—ऐश, विलास ।
Lineal descendants—वंशागत संतति ।	Lock—ताला ।	Lymphatic glands—लसीका ग्रन्थि ।
Linear—रेखाकार, रेखीय ।	Lock, Canal—ताला (नहर) ।	
Line Inspector—लाइन निरीक्षक ।	Locking up—बन्द करना, कैदियों को ताले में बन्द करना ।	M
Lineman—लाइनमैन ।	Lock-up—हवालात, बंदीखाना, रोवा-गार ।	Machine—मशीन, यन्त्र ।
Line Supervisor—लाइन पर्यवेक्षक ।	Locomotive—रेल-इंजन ।	Machinery—मशीनें, मशीनरी ।
Linger—देर लगाना, हिचकिचाना, दुःख या बीमारी में पड़े रहना ।	Locum tenes—स्थानापन्न ।	Magazine—मैगजिन, वारुदखाना, वारुद घर, पत्रिका ।
Link—कड़ी, बंध, संपर्क, योजक ।	Locus standi—अधिकारिता ।	Magistrate—मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी, दण्डनायक ।
Linking—शृंखलन ।	Locust—टिड्डी ।	Magnetic needle—चुम्बकी सुई ।
Lintel—लिनटल, सरदल ।	Log—लट्ठा ।	Magniloquence—शब्दाडम्बरता ।
Liquidation—परिसमापन, समापन ।	Logarithm—लघुगणक ।	Magnitude—कृतिमान, महत्ता, परिमाण ।
List—सूची ।	Log book—कार्य-पंजी ।	Mahogany—महोगनी, तुन ।
Listing of cases—मुकदमों को सूची बद्ध करना ।	Log sheets—कार्यपंजी के पत्रे ।	Maintenance—अनुरक्षण, पोषण, भरण-पोषण ।
Literature—साहित्य ।	Long term—दीर्घावधि ।	Maintenance and Repairs—अनुरक्षण और मरम्मत ।
Liver—यकृत, जिगर ।	Longitude—देशान्तर, रेखांश ।	Maintenance Inspector—अनुरक्षण निरीक्षक ।
Livery—बर्दी ।	Longitudinal section—अनुलंब काट ।	Maintenancy of boundary and survey marks—सीमाद्योतक तथा सर्वेक्षण चिन्हों का अनुरक्षण ।
Live-stock—पशुधन ।	Look—देखना, निगाह डालना ।	Maintenance officer—अनुरक्षण अधिकारी ।
Load—(<i>n.</i>) भार, बोझ; (<i>v.</i>) भरना, लादना ।	Loophole—विवर ।	Maintenance, Suit for—भरण-पोषण का दावा, जीवन निर्वाहवाद ।
Loaded—भरा, भरित ।	Loose—ढीला, अलग्न, असंगठित ।	
Loading—लदान, गोली भरना, भारण ।	Loose cotton—खुली हुई रूई ।	
Loamy—दुमट, दुमटी ।	Lorry—लारी ।	
Loan—ऋण, उधार, कर्जा ।	Lorry coolie—लारी कुली ।	
Loans and advances—ऋण और अग्रिम ।	Lorry driver—लारी चालक ।	
Lobby—कक्ष, गोष्ठी, कक्ष ।	Loss—हानि, घाटा, नुकसान ।	
Local—स्थानीय, मुकामी ।	Loss of seniority—बरीयता की हानि ।	
Local allowance—स्थानीय मत्ता ।	Lounge—(<i>v.</i>) आराम करना, टाल-मटोल करना, (<i>n.</i>) विश्राम कक्ष ।	

Main walls—सदर दीवारें ।	Marginal heading—हाशिये की सुर्खी, उपान्त शीर्षक ।	Matter—मामला, विषय, वस्तु, पदार्थ, द्रव्य ।
Major—वयस्क बालिग, मुख्य, बहत् ।	Marginally noted—उपान्त, लिखित ।	Mature—परिपक्व, प्रौढ़ ।
Major head—मुख्य शीर्ष ।	Marine Officer—समुद्रीय अधिकारी ।	Maturity—परिपक्वता, प्रौढ़ता, परिपाक ।
Majority—बहुमत, वयस्कता, अधिकांश ।	Marine Policies—समुद्री बीमा पालिसी ।	Maximum—अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा ।
Major works—बड़े निर्माण कार्य ।	Mark—(v.) चिन्हित करना, निर्दिष्ट करना, देखना, निशान लगाना, चिन्ह लगाना; (n.) चिन्ह ।	Maximum demand—अधिकतम माँग ।
Making up deficit duty—शुल्क की कमी को पूर्ण करना ।	Market—मंडी, बाजार, विपणि ।	Maximum & minimum salary—अधिकतम और न्यूनतम वेतन ।
Male Line—पुरुष परंपरा ।	Marketable security—विक्रय्य सरकारी हुंडी ।	Maximum temperature—अधिकतम ताप ।
Malleable—कुट्य, घातवर्ध्य ।	Market dues—बाजार की उगाही ।	Meal—खाना, भोजन, खुराक ।
Mammary abscess—थनों का फोड़ा ।	Market price—बाजार भाव या मूल्य ।	Mean—माध्य, औसत ।
Management—प्रबंध ।	Market rate—बाजार भाव, आपणिक ।	Mean cloud amount was slightly below normal—औसत बादलमान प्रसम से कुछ ही कम था ।
Management of accounts of Government properties—सरकारी सम्पत्ति का प्रबंध और हिसाब ।	Market value—बाजार मूल्य ।	Mean daily range of temperature—दैनिक तापमान का औसत उतार-चढ़ाव ।
Manager—प्रबंधक, व्यवस्थापक ।	Marriage certificate—वैवाहिक या विवाह प्रमाण-पत्र ।	Mean direction of wind—वायु की माध्य दिशा ।
Mandatory—प्रादेशात्मक ।	Marriage, dissolution of—विवाह-भंग ।	Mean of month—महीने का औसत ।
Manhole—नरमोखा, नर विवर ।	Marriage, nullity of—विवाह रद्द करना ।	Mean temperature—माध्यम या औसत तापमान ।
Manifesto—घोषणापत्र ।	Marsh—दलदल ।	Mean velocity at 8 a.m.—आठ बजे प्रातः का औसत वेग ।
Manual of orders—आज्ञा पुस्तिका ।	Martial right—सैनिक अधिकार ।	Measure—नाप, माप ।
Manoeuvre, Field, Firing and Artillery Practice Act—युद्धाभ्यास, चांदमारी और गोलावारी अभ्यास का विधान ।	Masculine style—पुरुषोचित शैली ।	Measuring glass—नापने का गिलास, माप यंत्र ।
Mantelpiece—अंगीठी के ऊपर की कगार या पटरी ।	Mask—मुखावरण, मुखौटा, चेहरा, मुखपट ।	Measurement—माप, पैमाइश ।
Mansion—महल, भवन ।	Mason—राज ।	Measurement Book—माप-पुस्तक ।
Manual (Books)—सारसंग्रह ।	Masonry—चिनाई, राजगीरी ।	Mechanical—यन्त्रवत्, यांत्रिक ।
Manual of Government orders—सरकारी आज्ञाओं की पुस्तिका ।	Masonry work—ईंट-पत्थर का काम, ईंट चूने का काम ।	Mechanical Engineer—मैकेनिकल इंजीनियर, यांत्रिक अभियंता ।
Manufacture—(v.) माल बनाना या तैयार करना, निर्माण ।	Master of ship—पोतपति, पोताध्यक्ष, जहाज मास्टर ।	Medical—(n.) चिकित्सा, डाक्टरी; (adj.) चिकित्सा संबन्धी, औपवीय ।
Manufacturing Process—निर्माण क्रिया ।	Master Security Printing—सरकारी हुण्डियों के मुद्रण अध्यक्ष ।	Medical Board—चिकित्सा बोर्ड ।
Manure—खाद ।	Material—भौतिक, महत्वपूर्ण, ठोस; (n.) सामग्री, पदार्थ, सामान, मसाला ।	Medical certificate—चिकित्सा प्रमाण-पत्र, डाक्टरी प्रमाण-पत्र ।
Manure pit—खाद का गड्ढा ।	Material change—महत्वपूर्ण परिवर्तन ।	Medical certificate of fitness—कार्यक्षमता का डाक्टरी प्रमाण-पत्र ।
Manuscript—पांडुलिपि, हस्तलेख ।	Material exhibit—महत्वपूर्ण प्रदर्शित वस्तु ।	Medical leave—बीमारी की छुट्टी
Map—नकशा, मानचित्र ।	Material injustice—वास्तविक अन्याय, खासा अन्याय ।	Medical Officer—चिकित्साधिकारी ।
Map-correction—नक्शा ठीक करना, मानचित्र संशोधन ।	Materials—पदार्थ, सामग्री सामान ।	Medical Practitioner—चिकित्सक, डाक्टर, चिकित्साकर्म ।
Mappist—नकशा बनानेवाला, मानचित्रकार ।	Maternity hospital—प्रसूति चिकित्सालय, जच्चा-बच्चा अस्पताल ।	Medical Report—डाक्टर की या डाक्टरी रिपोर्ट ।
Marble—संगमरमर ।	Maternity leave—प्रसूति छुट्टी ।	Medicine—औषधि, दवाई ।
March—अभियान, कूच करना, चलना ।	Mathematical and Surveying Instruments—गणित और भूमाप-सम्बन्धी उपकरण ।	Medium—माध्यम, मध्य, माध्य ।
March in file—पंक्ति में मार्च करना, पंक्ति में चलना ।	Matron—मातृका, मैट्रन ।	Meeting—सभा, बैठक, अधिवेशन ।
Margin—हाशिया, उपान्त ।		
Marginal—उपान्त का, औपान्तिक, हाशिये का, उपांतस्थ ।		
Marginal adjustment—औपान्तिक समाधान ।		

Life licence—आजीवन अनुज्ञापत्र ।	Local board—स्थानीय बोर्ड, स्थानीय मंडल ।	Louver—झिलमिली ।
Life preservers—प्राणरक्षक, जान बचाने वाले ।	Local body—स्थानीय निकाय ।	Lower—निचला ।
Life sentence—आजीवन दंड ।	Local breeds—स्थानीय नस्लें ।	Lower Court—निचली अदालत, निचला न्यायालय ।
Life tenure—आजीवन मूधृति ।	Local cess—स्थानीयकर, अववाब ।	Lower Division Assistant—अवर श्रेणी सहायक ।
Lift—लिफ्ट, उत्थापक ।	Local custom—स्थानीय रिवाज, दस्तूर-देही ।	Lower Grade Clerk—अवर श्रेणी क्लर्क ।
Lift irrigation—ढेकुल से सिंचाई, उठान सिंचाई ।	Local depot—स्थानीय डिपो ।	Lower Subordinate—अवस्तन, अधीनस्थ ।
Light—(adj.) हलका, लघु; (n.) उजाला, रोशनी ।	Local enquiry—स्थानीय जांच ।	Lowest rate in the month—मास का न्यूनतम भाव या मूल्य ।
Lightning conductor—तड़ित् संवाहक ।	Local fund—स्थानीय निधि ।	Low tension—न्यून तनाव, निम्न वोल्टता ।
Likely—संभावनीय ।	Local Government—स्थानीय सरकार ।	Lubricate—चिकनाना, तेल देना ।
Litigation—मुकदमेवाजी ।	Local head—स्थानीय प्रमुख ।	Lubricator—स्नेहक, तेलदान ।
Lime—चूना ।	Locality—आसपास, पास-पड़ोस ।	Luggage—असवाब, सामान ।
Limestone—चूना पत्थर ।	Local limit—स्थानीय सीमा ।	Lump—पिंड, ढेला ।
Limit—सीमा, मर्यादा ।	Local management—स्थानीय प्रबंध ।	Lump cash rent—एकराशि तकद लगान ।
Limit and limitation of right—अधिकार की सीमा और अवधि ।	Local rate—स्थानीय दर ।	Lump sum—इकमुश्त रकम, एकराशि ।
Limitation—अवधि, सीमाबध ।	Local Self-Government—स्थानीय स्वायत्त शासन ।	Lunatic—पागल, विक्षिप्त, उन्मत्त ।
Line—रेखा, सतर ।	Local thunder showers were experienced all over the province—सारे प्रान्त में विजली की गरज के साथ स्थानिक वर्षा हुई ।	Luxury—ऐश, विलास ।
Lineal descendants—वंशागत संतति ।	Lock—ताला ।	Lymphatic glands—लसीका ग्रन्थि ।
Linear—रेखाकार, रेखीय ।	Lock, Canal—ताला (नहर) ।	
Line Inspector—लाइन निरीक्षक ।	Locking up—बन्द करना, कैदियों को ताले में बन्द करना ।	M
Lineman—लाइनमैन ।	Lock-up—हवालात, बंदीखाना, रोवागार ।	Machine—मशीन, यन्त्र ।
Line Supervisor—लाइन पर्यवेक्षक ।	Locomotive—रेल-इंजन ।	Machinery—मशीनें, मशीनरी ।
Linger—देर लगाना, हिचकिचाना, दुःख या बीमारी में पड़े रहना ।	Locum tenes—स्थानापन्न ।	Magazine—मैगजिन, वारूदखाना, वारूद घर, पत्रिका ।
Link—कड़ी, बंध, संपर्क, योजक ।	Locus standi—अधिकारिता ।	Magistrate—मजिस्ट्रेट, दंडाधिकारी, दण्डनायक ।
Linking—शृंखलन ।	Locust—टिड्डी ।	Magnetic needle—चुम्बकी सुई ।
Lintel—लिनटल, सरदल ।	Log—लट्ठा ।	Magniloquence—शब्दाडम्बरता ।
Liquidation—परिसमापन, समापन ।	Logarithm—लघुगणक ।	Magnitude—कांतिमान, महत्ता, परिमाण ।
List—सूची ।	Log book—कार्य-पंजी ।	Mahogany—महोगनी, तुन ।
Listing of cases—मुकदमों को सूचीबद्ध करना ।	Log sheets—कार्यपंजी के पन्ने ।	Maintenance—अनुरक्षण, पोषण, भरण-पोषण ।
Literature—साहित्य ।	Long term—दीर्घावधि ।	Maintenance and Repairs—अनुरक्षण और मरम्मत ।
Liver—यकृत, जिगर ।	Longitude—देशान्तर, रेखांश ।	Maintenance Inspector—अनुरक्षण निरीक्षक ।
Livery—बर्दी ।	Longitudinal section—अनुलंब काट ।	Maintenancy of boundary and survey marks—सीमाद्योतक तथा सर्वेक्षण चिन्हों का अनुरक्षण ।
Live-stock—पशुधन ।	Look—देखना, निगाह डालना ।	Maintenance officer—अनुरक्षण अधिकारी ।
Load—(n.) भार, बोझ; (v.) भरना, लादना ।	Loophole—विवर ।	Maintenance, Suit for—भरण-पोषण का दावा, जीवन निर्वाहवाद ।
Loaded—भरा, भरित ।	Loose—ढीला, अलग्न, असंगठित ।	
Loading—लदान, गोली भरना, भारण ।	Loose cotton—खुली हुई रूई ।	
Loamy—डुमट, डुमटी ।	Lorry—लारी ।	
Loan—ऋण, उधार, कर्जा ।	Lorry coolie—लारी कुली ।	
Loans and advances—ऋण और अग्रिम ।	Lorry driver—लारी चालक ।	
Lobby—कक्ष, गोष्ठी, कक्ष ।	Loss—हानि, घाटा, नुकसान ।	
Local—स्थानीय, मुकामी ।	Loss of seniority—वरीयता की हानि ।	
Local allowance—स्थानीय मत्ता ।	Lounge—(v.) आराम करना, टाल-मटोल करना, (n.) विश्राम कक्ष ।	

Main walls—सदर दीवारें ।
 Major—बड़े का, मुख्य, बहत् ।
 Major head—मुख्य शीर्ष ।
 Majority—बहुमत, बड़े का, अधिकतर ।
 Major works—बड़े निर्माण कार्य ।
 Making up deficit duty—गुल्क की कमी को पूर्ण करना ।
 Male Line—मुख्य परंपरा ।
 Malleable—कुट्य, घातव्य ।
 Mammary abscess—धनों का फोड़ा ।
 Management—प्रबंध ।
 Management of accounts of Government properties—सरकारी सम्पत्ति का प्रबंध और हिसाब ।
 Manager—प्रबंधक, व्यवस्थापक ।
 Mandatory—प्रादेशात्मक ।
 Manhole—नरमोखा, नर विवर ।
 Manifesto—घोषणापत्र ।
 Manual of orders—आज्ञा पुस्तिका ।
 Manoeuvre, Field, Firing and Artillery Practice Act—युद्धान्यास, चांदमारी और गोलावारी अन्यास का विधान ।
 Mantelpiece—अंगीठी के ऊपर की कगार या पट्टी ।
 Mansion—महल, भवन ।
 Manual (Books)—सारसंग्रह ।
 Manual of Government orders—सरकारी आज्ञाओं की पुस्तिका ।
 Manufacture—(n.) माल बनाना या तैयार करना, निर्माण ।
 Manufacturing Process—निर्माण क्रिया ।
 Manure—माद ।
 Manure pit—माद का गड्ढा ।
 Manuscript—पांडुलिपि, हस्तलिपि ।
 Map—नक्शा, मानचित्र ।
 Map-correction—नक्शा ठीक करना, मानचित्र संशोधन ।
 Mappist—नक्शा बनानेवाला, मानचित्रकार ।
 Marble—मंगमरमर ।
 March—अभियान, कूच करना, चलना ।
 March in file—पंक्ति में मार्च करना, पंक्ति में चलना ।
 Margin—परिमित, उपान्त ।
 Marginal—उपान्त का, भौगोलिक, परिधि का, उपसर्ग ।
 Marginal adjustment—भौगोलिक संशोधन ।

Marginal heading—हाशिये की मुर्गी, उपान्त शीर्षक ।
 Marginally noted—उपान्त, निमित्त ।
 Marine Officer—समुद्रीय अधिकारी ।
 Marine Policies—समुद्री नीति नीतियाँ ।
 Mark—(n.) चिह्नित करना, निश्चित करना, देवना, निगलत लगाना, चिह्न लगाना; (v.) चिह्न ।
 Market—मंडी, बाजार, विपणि ।
 Marketable security—विक्रीय सरकारी हंडी ।
 Market dues—बाजार की उगाही ।
 Market price—बाजार भाव या मूल्य ।
 Market rate—बाजार भाव, आपणिक ।
 Market value—बाजार मूल्य ।
 Marriage certificate—विवाहिक या विवाह प्रमाण-पत्र ।
 Marriage, dissolution of—विवाह-भंग ।
 Marriage, nullity of—विवाह रद्द करना ।
 Marsh—दलदल ।
 Martial right—सैनिक अधिकार ।
 Masculine style—युक्तोचित शैली ।
 Mask—मुखावरण, मुत्तौटा, चेहरा, मुखपट ।
 Mason—राज ।
 Masonry—चिनाई, राजगारी ।
 Masonry work—ईंट-पत्थर का काम, ईंट चूने का काम ।
 Master of ship—पोतपति, पोनाध्यक्ष, जहाज मास्टर ।
 Master Security Printing—सरकारी हण्डियों के मुद्रण अध्यक्ष ।
 Material—भौतिक, महत्वपूर्ण, ठोस; (n.) सामग्री, पदार्थ, सामान, मसादा ।
 Material change—महत्वपूर्ण परिवर्तन ।
 Material exhibit—महत्वपूर्ण प्रदर्शित वस्तु ।
 Material injustice—सामयिक अन्याय, सामा अन्याय ।
 Materials—पदार्थ, सामग्री सामान ।
 Maternity hospital—प्रसूति विभाग-घर, जन्म-घर का अस्पताल ।
 Maternity leave—प्रसूति छुट्टी ।
 Mathematical and Surveying Instruments—गणित और सूर्य-सम्बन्धी उपकरण ।
 Matron—मातृका, मैट्रन ।

Matter—मानना, विषय, वस्तु, पदार्थ, द्रव्य ।
 Mature—परिपक्व, प्रौढ़ ।
 Maturity—परिपक्वता, प्रौढ़ता, परिपक्व ।
 Maximum—अधिकतम, उच्चतम में उच्चतम ।
 Maximum demand—अधिकतम मांग ।
 Maximum & minimum salary—अधिकतम और न्यूनतम वेतन ।
 Maximum temperature—अधिकतम ताप ।
 Meal—भोजन, भोजन, भोजन ।
 Mean—माध्य, औसत ।
 Mean cloud amount was slightly below normal—औसत बादलमान प्रमाण में कुछ ही कम था ।
 Mean daily range of temperature—दैनिक तापमान का औसत उतार-चढ़ाव ।
 Mean direction of wind—ताप की माध्य दिशा ।
 Mean of month—महीने का औसत ।
 Mean temperature—माध्यम या औसत तापमान ।
 Mean velocity at 8 a.m.—आठ बजे प्रातः का औसत वेग ।
 Measure—माप, माप ।
 Measuring glass—मापने का कियन, माप यंत्र ।
 Measurement—माप, पैमाना ।
 Measurement Book—माप-पुस्तक ।
 Mechanical—तन्त्र, कृत्रिम ।
 Mechanical Engineer—मैकेनिकल इंजीनियर, यंत्रिक अभियंता ।
 Medical—(n.) चिकित्सा, चिकित्सी; (adj.) चिकित्सा संबंधी, चिकित्सी ।
 Medical Board—चिकित्सा बोर्ड ।
 Medical certificate—चिकित्सा प्रमाण-पत्र, चिकित्सी प्रमाण-पत्र ।
 Medical certificate of fitness—चिकित्सीय क्षमता का चिकित्सी प्रमाण-पत्र ।
 Medical leave—चिकित्सी की छुट्टी ।
 Medical Officer—चिकित्सी अधिकारी ।
 Medical Practitioner—चिकित्सी, चिकित्सी ।
 Medical Report—चिकित्सी के चिकित्सी रिपोर्ट ।
 Medicine—चिकित्सी, चिकित्सी ।
 Medium—माध्यम, माप, माप ।
 Meeting—सम्मेलन, बैठक, संसद ।

Member—सदस्य ।	Mensuration—क्षेत्रमिति ।	Military prisoner—सैनिक बन्दी ।
Membership—सदस्यता ।	Mental aberration—मानसिक विकार, वदहवासी ।	Military service—सैनिक या सैन्य सेवा ।
Members of the Committee of Courses in Agriculture or Art—कृषि विज्ञान अथवा कला पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।	Mental defect—मस्तिष्क दोष, दिमागी खराबी ।	Military stores—युद्ध सम्बन्धी सामान, सैनिक कोष्ठगार, सैनिक सामग्री ।
Members of the Committee of Courses in Biology—जीव विज्ञान पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।	Mental Hospital—मस्तिष्क रोग चिकित्सालय, पागलों का अस्पताल ।	Milk zones—दूध के इलाके, दूध प्राप्त करने के क्षेत्र ।
Members of the Committee of Courses in Chemistry—रसायन शास्त्र पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।	Mental patient—मस्तिष्क रोगी ।	Mineral—खनिज ।
Members of the Committee of Courses in Logic—तर्कशास्त्र पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।	Mention—उल्लेख, जिक्र ।	Miniature—लघुरूप ।
Members of the Committee of Courses in Mathematics—गणित पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।	Mercy petition—दया याचिका, रहम की दरखास्त ।	Minimum—न्यूनतम, सब से अल्पतम, कम ।
Members of the Committee of Courses in Modern European Languages—आधुनिक योरोपीय भाषा पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।	Merget—विलय, विलयन ।	Minimum qualification—न्यूनतम योग्यता, कम से कम योग्यता ।
Members of the Committee of Courses in Physics—भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम समिति के सदस्य ।	Mesne profit—मध्यवर्ती लाभ ।	Minister for Communication—यातायात मंत्री ।
Memo—स्मृतिपत्र, यादी, ज्ञापक ।	Mess—रसोई, चौका ।	Minister-in-charge—कार्यभारी मंत्री ।
Memo of appearance—उपस्थिति का स्मृतिपत्र ।	Message, Original—मूल संदेश ।	Ministerial Establishment and Menial—लेखकवर्गीय और परिचारक स्थापनाएँ ।
Memo of cost—याददाश्त खर्च, व्यय-स्मरणपत्र ।	Mess allowance—भोजनालय भत्ता ।	Ministerial Servants—लेखकवर्गीय सेवक ।
Memoranda—ज्ञापन-पत्र ।	Mess manager—पाकशाला प्रबन्धक ।	Ministerial Staff—लेखकवर्गीय कर्म-चारीगण ।
Memorandum of agreement—याददाश्त इकरारनामा, इकरारनामे का ज्ञापन-पत्र ।	Mess supervisor—भोजनालय पर्य-वेक्षक ।	Minister of Agriculture—कृषि मंत्री ।
Memorandum of appeal—अपील का ज्ञापन-पत्र ।	Metal road—पक्की सड़क ।	Minister of Development—विकास मंत्री ।
Memorandum of association of a company—कंपनी का संघ नियम, कंपनी का याददाश्त शराकत, कंपनी का विधान-पत्र ।	Metal work—धातु शिल्प ।	Minister of Excise—आवकारी मंत्री ।
Memorandum of evidence—साक्ष्य का प्रमाणपत्र, साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण ।	Metallic tape—लोहे का फीता ।	Minister of Finance—वित्त मंत्री ।
Memorandum of securities—सरकारी हण्डियों का ज्ञापन पत्र या संक्षिप्त विवरण ।	Meteorological Department—मौसम विज्ञान-विभाग ।	Minister of Food—खाद्य मंत्री ।
Memorial—स्मरण-पत्र, स्मारक, अभ्या-वेदन ।	Meteorological observatories—मौसम विज्ञान मान मन्दिर, वेधशाला ।	Minister of Public Health—जन-स्वास्थ्य मंत्री ।
Memorialist—अभ्यावेदक ।	Method—ढंग, रीति, विधि ।	Minister of Public Works Department—निर्माण मंत्री ।
Men of influence—प्रभावशाली व्यक्ति ।	Method of preparation—तैयारी का ढंग ।	Minister of Revenue—माल मंत्री ।
	Metropolitan pattern—राजधानी का नमूना ।	Ministry—मंत्रिमण्डल ।
	Microscopical examination—सूक्ष्मदर्शी परीक्षण ।	Minor—(adj.) लघु, छोटा; (n.) नावा-लिंग, अवयस्क ।
	Mid-wife—दाई, धात्री ।	Minor Estimates—लघु तख्मिनी ।
	Mid-wifery—धात्री-विद्या, प्रसूति-विद्या ।	Minor Head—लघु शीर्ष ।
	Migration—प्रव्रजन, प्रवासन, देशांतरण ।	Minor under the guardianship of—की संरक्षता में अवयस्क या ना-वालिंग ।
	Migration certificate—प्रव्रजन प्रमाण-पत्र ।	Minor work—छोटे निर्माण कार्य ।
	Mild—मुलायम, हल्का, धीमा, मंदा, मीठा, कोमल, मृदु ।	Minutes Book—कार्य वृत्त पुस्तक ।
	Mileage—मील-दूरी, मील भत्ता ।	Misappropriation—दुरुपयोग ।
	Mileage allowance—मील-भत्ता ।	Misbehaviour—कदाचार, दुर्व्यवहार ।
	Military—(n.) सेना, फौज, लश्कर; (adj.) सैनिक, फौजी ।	Miscarriage—गर्भपात ।
	Military encamping grounds—सैनिक पड़ाव ।	Miscarriage of Justice—न्याय का अपवहन ।
	Military, Naval & Air Force—सैनिक, नौ और नभ सेनाएँ ।	Miscellaneous—विविध, प्रकीर्ण ।
	Military officer—सैनिक अधिकारी, फौजी अफसर, सेना अधिकारी ।	

Miscellaneous Expenditure—विविध व्यय ।
 Miscellaneous subordinate posts—विविध अधीनस्थ नौकरियाँ, विविध अधीनस्थ स्थान ।
 Misconduct—बुरा चलन, दुराचरण, दुर्गचार ।
 Misdescription—अशुद्ध वर्णन ।
 Misplace—गुठोर रखना ।
 Mistake—भूल, त्रुटि गनती, अशुद्धि, भ्रम, भूल ।
 Mistress—अध्यापिका ।
 Misused stamps—दुरुपयोग किये हुए स्टाम्प ।
 Mitigate—कम करना, जमन करना, हलका करना ।
 Mitigation—कमी, न्यूनीकरण, जमन ।
 Mix—मिलाना, मिश्रण करना ।
 Mixer—मिश्रक, मिलानेवाला ।
 Mobile traffic squads—यातायात नियंत्रण का गश्ती दस्ता ।
 Moderate defect—साधारण या मामूली दोष ।
 Moderation—मंदन ।
 Modification—रूपांतरण, अदल-बदल, सुधार, परिष्कार ।
 Modified grant—परिवर्तित अनुदान ।
 Modify—परिवर्तन करना, सुधार करना ।
 Modulus—मापांक ।
 Moiety fees—अर्ध शुल्क ।
 Moisture—नमी, आद्रता ।
 Molasses—सोरा, चोटा, जूती ।
 Moment, bending—नमन पूर्ण ।
 Moment of inertia—जड़ता प्रवृत्ति ।
 Momentum—संचेन ।
 Monetary—धन-संबंधी, आर्थिक ।
 Monetary allotment—आर्थिक अनुदान ।
 Money—पैसा-पैना, मुद्रा, पण ।
 Money order—मनीऑर्डर, पनादेन ।
 Monopoly—इजारा, एकाधिकार ।
 Monsoon damage—बर्सा द्वारा दूध-दूध, पर्या से हानि ।
 Monsoon and crops—मानसून और फसलें ।
 Month—मास, महीना ।
 Month in which to be accounted for—महीना जिसमें रिमांड हाका जाना ।
 Monthly abstract—मासिक सारांश ।

Monthly account—मासिक लेखा ।
 Monthly returns—मासिक विवरण-पत्र, मासिकारी नकल ।
 Moral—नैतिक ।
 Moral turpitude—नैतिक हीनता, नैतिक पतन ।
 Morbid specimens—बिह्वन नमूने, रण नमूने ।
 Mortality—मृत्यु, मरण मृत्यु-संख्या ।
 Mortgage—रहेन, बंधक, गिरवी ।
 Mortgagee—बंधकग्राही, बंधकी ।
 Mortgage bond—बंधक-पत्र ।
 Mortgagee's cultivation—बंधकग्राही की खेती या जोत ।
 Mortgage deed—बंधक पत्र ।
 Mortgaged property, reconveyance of—बंधक की हुई सम्पत्ति की वापसी ।
 Mortgager—बंधक-कर्ता ।
 Motion, formal—व्यवस्थित, प्रस्ताव ।
 Motor-car—मोटर गाड़ी ।
 Motor engine—मोटर मशीन ।
 Motor cycle allowance—मोटर साइकिल भत्ता ।
 Motor transport section—मोटर वाहन उपविभाग ।
 Mould—साँचा ।
 Moulding—साँचा बनाना, गढ़ाई, गढ़न, साँचा ।
 Mounted lineman—सवार लाइनमेन, आरोही लाइनमेन ।
 Mounted Police—सवार पुलिस ।
 Movable—चल, जंगम ।
 Movable property—चल सम्पत्ति ।
 Movement—गमन, गति, हलचल ।
 Mucous membrane—श्लेष्मण झिल्ली ।
 Mud mortar—गाल ।
 Mug—गग, हल्यदार बेलनी, प्याला ।
 Mule—सव्वर ।
 Multifarious suit—बहुविधवाद ।
 Municipality—नगरपालिका ।
 Munshi—मुन्शी ।
 Munsif—मुंसिफ ।
 Murder—हत्या, हत्या ।
 Museum—उपनिवेश, संग्रहालय ।
 Music—संगीत ।
 Musket—मुसक ।
 Musketry—मुसक, अस्त्र विद्या, अस्त्र-कौशल ।
 Musketry course—मुसक विद्या का

पाठ्यक्रम ।
 Muster—गजिरी, गिनती, सूची ।
 Muster Roll—गजिरी की लिखावट, उरगिदि नामावली ।
 Mutation—व्यक्ति-परिवर्तन, उरगिर्तन ।
 Mutatis Mutandis—संशोधित परि-वर्तनी नस्ति ।
 Mutiny—संग्राम, गदर, विद्रोह, विद्रोह, वंग-प्रताप ।
 Muzzle—घुमन ।
 My lord—श्रीमान् ।

N

 N.B.—विशेष सूचना ।
 Naib Tahsildar—सहायक तहसीलदार ।
 Naik—नायक ।
 Nail—खडिया, खोप ।
 Narration—वर्णन ।
 Narrative—वृत्तान्त ।
 Narrative of the case—सामने का वर्णन या वृत्तान्त ।
 Narrow—संकीर्ण, संक ।
 National Economy—राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था ।
 Nationalisation—राष्ट्रीयकरण ।
 Native Convert Marriage Dis-olution Act—देशी ईसाई या विवाह विच्छेद विधान ।
 Native of India—भारतवासी ।
 Natural causes—प्राकृतिक कारण ।
 Naturalization—सामान्यीकरण, देशीकरण ।
 Natural born—सामान्य जन्मिणी ।
 Nature—स्वभाव, प्रकृति, स्वभाव, नियम ।
 Nature of the case—सूचने का प्रकार ।
 Nature of the claim—सूचने का प्रकार ।
 Nature of vaccine—वैरिण का प्रकार ।
 Navigable channels—संचार मार्ग ।
 Navigation—संचारण, यात्रा मार्ग ।
 Nager Dam Project Board—नागर दाम परियोजना विधान ।
 Naval land rule—सैन्य भूमि विधान ।
 Necessary and proper—आवश्यक और उचित ।
 Necessary and proper—आवश्यक और उचित ।
 Naval land rule—सैन्य भूमि विधान ।

Negotiable—परक्राम्य, विनिमेय ।	सरकारी ।	Notification of acquisition of Land—भूमि प्राप्ति की अधिसूचना ।
Negotiable Instrument Act—परक्राम्य हुंडी विधान ।	Non-industrial consumer—अनौद्योगिक उपभोक्ता ।	Noting—टिप्पणी, टिप्पणी लिखना ।
Negotiation—क्रय-विक्रय, सौदा, वातचीत, वार्ता ।	Non-Judicial Stamp—न्यायिकेतर मुद्रांक ।	Notwithstanding—के होते हुए भी ।
Neighbourhood—पड़ोस ।	Non-labouring—अपरिश्रमी, मेहनत न करनेवाला ।	Nozzle—टॉटी, तुंड, थुथना ।
Net—शुद्ध, पूरा ।	Non-license—विना लाइसेंस का ।	Nucleus—केन्द्र, केंद्रक, नाभिक ।
Net assets—पूरी परिसंपत्ति ।	Non-occupancy—गैर दखिलकारी ।	Nuisance—कंटक, उत्पात, अपदूषण ।
Net emoluments—शुद्ध उपलब्धि ।	Non-pensionable post—विना पेंशन की या अपेंशनी नौकरी ।	Null and void—अकृत और शून्य ।
Net income—शुद्ध आमदनी या आय ।	Non-porous—अरंध्र ।	Nullity of marriage—विवाह की अकृति ।
Net pay due—शुद्ध प्राप्य वेतन ।	Non-postal stamp—डाक इतर टिकट ।	Number—संख्या ।
Net profit—शुद्ध लाभ ।	Non-recurring expenditure—अनावर्ती व्यय ।	Numbering of chapters—परिच्छेदों पर संख्या-क्रम डालना ।
Neutral—तटस्थ, उदासीन ।	Non-residential—अनावासिक, अनिवासी ।	Numbers of pier—खम्हों की संख्या ।
Neutral axis—उदासीन अक्ष ।	Non-scheduled—अपरिगणित ।	Numerator—अंश ।
New expenditure—नूतन व्यय ।	Non-vegetarian—आमिष भोजी ।	Numerical—संख्यात्मक, आंकिक ।
New fallow—नई परती ।	Normal—सामान्य, प्रसामान्य ।	Numerism—मुद्रा संबंधी ।
Nickel—निकल, कलई ।	Normally—सामान्यतः ।	Numismatic—मुद्रा संबंधी ।
Night charge—रात्रिक अधिभार ।	Normal School—प्रशिक्षण विद्यालय ।	Nursery—शिशुपालन गृह, पौधशाला ।
Night duty—रात की नौकरी ।	Normal time—प्रसामान्य अवधि ।	Nut—काष्ठ फल, डेवरी ।
Night duty squad—रात की नौकरी का स्काड ।	North India Ferries Act—उत्तर भारतीय घाट विधान ।	
Night duty watch—रात की नौकरी का पहरा ।	Notarial function—लेख्य प्रमाणन ।	
Night round—रात का गश्त, रात का फेरा ।	Notary public—लेख्य प्रमाणक ।	
Nightsoil—मैला, बिष्ठा ।	Notch—खाँच, दाँत ।	
Night watchman—रात का पहरेदार ।	Note—नोट, टिप्पणी ।	
Nipple—स्तनग्र, चूचुक ।	Note Book—टिप्पणी पुस्तिका ।	
Nomenclature—अभिधान, नाम-पद्धति, नामकरण ।	Noted—टीप किया गया, लिख लिया गया ।	
Nomenclature of roads—सड़कों का नामकरण ।	Note for Financial Committee—वित्त परिषदीय स्मृति-पत्र ।	
Nominal—नाम मात्र ।	Note-form—टिप्पणी चिट ।	
Nominal Roll—नाम-सूची, नामावली ।	Noter—टिप्पणीक ।	
Nomination—नामांकन, नामजदगी ।	Noter and drafter—टिप्पणी लेखक और पांडु-लेखक ।	
Nomination of reporters—संवाद-दाताओं का नामांकन ।	Notes and orders—टिप्पणियाँ और आज्ञायें ।	
Nominee—नामिता, मनोनीत ।	Note sheet—टिप्पणी फलक ।	
Non-agricultural Land—अकृष्य भूमि ।	Notice—सूचना, सूचना-पत्र ।	
Non-commissioned officer—अराजक अधिकारी ।	Notice of completion of work—कार्य पूरा करने की सूचना ।	
Non-compliance—पालन न करना, अपालन ।	Notice of ejection—बेदखली की सूचना ।	
Non-food-crops—खाद्येतर फसलें ।	Notice writer—सूचना लेखक ।	
Non-gazetted establishment—अराजपत्रित संस्थापन ।	Notification—विज्ञप्ति, सूचना, अधिसूचना ।	
Non-gazetted officer—अराजपत्रित अधिकारी ।		
Non-government—शासनेतर, गैर-		

Oar—डाँड़, चप्पू ।

Oath—शपथ, हलफ ।

Oath of allegiance—निष्ठा शपथ ।

Object—(n.) पदार्थ, वस्तु, विषय, आशय, उद्देश्य, निमित्त, प्रयोजन; (v.) आपत्ति उठाना या करना ।

Objection—एतराज, आपत्ति ।

Objection statement—आपत्ति-विवरण-पत्र ।

Objectionable—आपत्तिजनक, काविल-एतराज ।

Objects and reasons—उद्देश्य और कारण ।

Obligation of residence—आबाद रहने की कैद, निवास-प्रतिबन्ध बंधन या आवंध ।

Obligatory—जरूरी, अनिवार्य, अवैकल्पिक, बाध्य ।

Oblique—तिर्यक्, तिरछा ।

Oblong—आयताकार, आयतरूप ।

Obscure—अस्पष्ट, अप्रसिद्ध, गुप्त, पोशीदा ।

Obsolete plants—लुप्तप्रयोग स्थिर यंत्र, अप्रचलित स्थिर यंत्र ।

Observation—अवलोकन, अवलोक, प्रेक्षण ।

Observe—पालन करना, अनुपालन करना ।

Obstacle—रूकावट, बाधा ।

Obtuse angle—अधिककोण ।	Official Assignee—सरकारी नमान्- द्विनी ।	Ordnance—सूअर के हथियार, दूरी बोरे, बोलगाना, बोल-बायर ।
Occasional—कदाचनिक, कभी-कभी का, यदा-कदा ।	Official Receiver—सरकारी प्रहरीता, सरकारी रिसेवर ।	Ordinate—लैटि ।
Occasional check—यदा-कदा को पड़ना ।	Official Trustee—सरकारी न्यायकारी ।	Ore—कच्ची धातु, अम्ल ।
Occupancy—दमीलकारी अधिमोम ।	Officiating—न्यायापन्न ।	Organ—अंग ।
Occupancy tenant—दरजनकारी अनामी दगलकारी काग्तकार, नोकता कृषक ।	Officiating appointment—न्यायापन्न नियुक्ति ।	Organised—संगठित ।
Occupancy tenants of Govern- ment estates others than Nazuls—नजूल के अतिरिक्त दूसरी सरकारी भूमि के दरजलकारी अनामी ।	Offset piece—गोनिया ।	Oriental—पूर्वी ।
Occupancy tenants under Act— विधान के अधीन दरजलकारी अनामी ।	Of normal nature—सामान्य ढंग का, प्रसामान्य प्रकार का ।	Orientalism—स्थिति निर्माण, स्थिति निश्चयन, दिग्दर्शन ।
Occupation—काम, धंदा, व्यवसाय, उपजीविका ।	Of previous year's crop—पिछले वर्ष की फसल का ।	Original—मूल, मूलिक, प्रारम्भिक ।
Occupiers rate—किरायेदार की दर ।	Oil cake—तली ।	Original authority—मूल प्राधिकारी, मूल अधिकार ।
Occur—घटना या घटित होना ।	Oil engine—तेल इंजन चालक, तेल इंजन ड्राइवर ।	Ornamental work—देख-बूटा, अलं- कारी या सजावटी ।
Occurrence—घटना, वाक्या ।	Oilers—तेलवाला ।	Orphan—अनाथ ।
Octagon—अष्टभुज ।	Old fallow—पुरानी परती ।	Orphanage—अनाथालय ।
Octennial—अष्टसाला ।	Omitted—छोड़ा हुआ ।	Other non-contract contingen- cies—अन्य अनिश्चित प्रासंगिक व्यय ।
Octroi—चुंगी ।	On average pay—औसत वेतन पर ।	Outbreak—बैरना (रोग का), फूट निकलना, गुरु होना ।
Octroi duty—चुंगीकर ।	On behalf of—की ओर से ।	Outdoor—बाहर का, काल ।
Odd—विषम ।	On deputation—प्रतिनियुक्ति पर ।	Outdoor patient—बाहरी या सारी रोगी ।
Of current year's crop—चालू वर्ष की फसल का ।	On probation—परीक्षण पर ।	Outline—गठना, सफरिश ।
Offence—अपराध, जुर्म ।	On service—कार्यायं ।	Out post—बाहरी चौकी ।
Offer—(n.) पेश करना, देना; (v.) प्रस्ताव, अर्पण, दाम, मोल, उपदान, उपहार ।	On special duty—विशेष कार्यायं ।	Outrage—अत्याचार, बर्बरता ।
Office—कार्यालय, दफ्तर ।	On the examination of—की जांच करने पर ।	Outset—आरम्भ ।
Office begs to submit that—कार्या- लय का निवेदन है कि ।	Onus—भार, दायित्व ।	Outskirt village—जिनारे के गांव पारसवती गांव ।
Office mate—कार्यालय के साथी ।	Ooze—(n.) चूना, छतना, टपकना, रसाव, बहाव, कीचड़, पंक, मृदुपंक ।	Outturn—उत्पादन, पैदावार, उत्तर ।
Office memorandum—कार्यालय ज्ञापन ।	Opening—उद्घाटन, प्रारम्भ, मुग, हार ।	Oval—अंडाकार ।
Office order—कार्यालय आदेश ।	Opinion—सत्य, मत ।	Oven—चूल्हा, कपूर ।
Officer—अधिकारी, अफसर, पदा- धिकारी ।	Opium Department—अफीम विभाग ।	Over—उपर, पर, समान ।
Officer on Special Duty—विशेष कार्याधिकारी ।	Opposite party—विपक्ष, प्रतिक्ष, प्रतिपक्षी, विरोधी दल ।	Overcharge—अधिकार ।
Officers training class in land records and survey—सामान्य देशी और नृमाप के अफसरों का प्रशिक्षण ।	Optical square—प्रचामीय मुनिका ।	Overcrowding—अधिक भीड़, बहुत भीड़ होना, अति सङ्घन ।
Office Superintendent—कार्यालय अधीक्षक ।	Option—विकल्प, मज्जी, रनि ।	Overhead—ऊपरिय ।
Office to note—कार्यालय नोट करे ।	Oral lease—मौखिक पट्टा, जवानी पट्टा ।	Over leaf—पत्र के दूसरी ओर ।
Oh!—(n.) मन्मथी, सज्जीब, अधिकारी, अङ्कवार, अनामी ।	Orbit—रत्न, परिक्रमा पथ ।	Overlook—अधीक्षक करना, परतल से देना ।
	Orchard—बगीचा का बग, फल बगिचा, फलीबान ।	Over payment—अधिक नृमाप ।
	Order आज्ञा, आदेश ।	Oversee pay—अधिक कर का पैसा ।
	Orderly—सज्जीब ।	Oversee—अधीक्षक ।
	Order sheet—अज्ञाप पत्र ।	Overstay—अधिक रुकना ।
	Ordinance—अज्ञाप, अधिवेद ।	Overstay on leave—मुक्ति पर अधिक रुकना ।
	Ordinary—सामान्य, सामान्य ।	Overstay on duty—सामान्य काम का अधिक रुकना, अधिवेद का अधिक रुकना ।
	Ordinary plant—सामान्य पशुप ।	Overstay on leave—मुक्ति पर अधिक रुकना ।
	Ordinary party—सामान्य पैसा ।	

P	Part transaction—आंशिक लेन-देन ।	Pendency—लंबन ।
Package—गट्टर, संवेस्टन ।	Party—पक्ष, दल ।	Pending—अनिर्णीत, निलंबित ।
Packet—पुलिदा ।	Party to the suit—फरीक मुकद्दमा ।	Pending disposal of—मुकद्दमा फैसला होने तक ।
Packet Post—पुलिदा डाक ।	Pass—(v.) उत्तीर्ण होना, पारित होना; (n.) प्रवेश-पत्र ।	Pending travelling allowance bills—निलंबित यात्रिक भत्ता बिल ।
Paint—रंग, रोगन ।	Passage—मार्ग, गली ।	Penetration—वेधन, प्रवेश ।
Painter—रंगसाज ।	Passenger train—सवारी गाड़ी ।	Pension—पेंशन, निवृत्ति-वेतन ।
Pair of compasses—परकार ।	Pass on—आगे बढ़ाना ।	Pensionable post—पेंशनी पद या नौकरी ।
Pamphlet—पुस्तिका, चौपन्ना ।	Passport—पार-पत्र ।	Pensionable service—पेंशनी नौकरी ।
Pan—कढ़ाई, पलड़ा ।	Pasture—चरागाह ।	Pensionary charges—पेंशन-सम्बन्धी व्यय ।
Panel—दिलहा, नामिका, सूची ।	Patent medicines—पेटेन्ट दवाइयाँ, एक्स्व भेषज ।	Pensioner—पेंशनर, पेंशन पानेवाला ।
Pane of glass—शीशे का टुकड़ा ।	Pathological specimens—रोग-विषयक नमूने ।	Pension paper—पेंशन-पत्र ।
Pantographer—प्रतिलिपिक यंत्र, नकशों को छोटा-बड़ा करनेवाला यंत्र ।	Pathology—रोग विज्ञान, शरीर-चिकित्सा विज्ञान ।	Pension payment orders—पेंशन भुगतान आज्ञा ।
Paper under consideration—विचाराधीन पत्र ।	Patrol—(n.) गश्त; (v.) गश्त लगाना ।	Peon—चपरासी ।
Paper-weight—पत्र-भार, पेपर-वेट ।	Patrolling—गश्त लगाना ।	Percentage—प्रतिशतता ।
Par—समता, सममूल्य ।	Patron—संरक्षक ।	Percentage increase and decrease—प्रतिशत बढ़ती या कमी ।
Para—पैरा, कंडिका ।	Pattern—नमूना, प्रतिरूप, आदर्श ।	Perennial—बारहमासी, चिरस्थायी, वर्षानुवर्षी ।
Parabola—परवलय ।	Pauper appeal—अकिंचन अपील ।	Perforator—छिद्रक ।
Parade—परेड, कवायद ।	Pauper suits—अकिंचन वाद ।	Performance of additional duties—अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन या संपादन ।
Paragraph—कंडिका ।	Pavement—फर्श, पटरी ।	Perimeter—परिमाण, परिस्तीमा ।
Parallelogram—समानान्तर या समांतर चतुर्भुज ।	Pay—वेतन, तनखाह ।	Periodical—सावधिक, कालिक, सामयिक ।
Parapets—मुंडेर, प्राकार ।	Pay and allowance—वेतन और भत्ता ।	Periodical Inspection—सामयिक निरीक्षण ।
Paraphernalia—समान, असबाब ।	Pay bill—वेतन-पत्र ।	Periodically—सामयिक तौर पर ।
Parasite—परजीवी, पराश्रयी ।	Payee—पानेवाला, आदाता ।	Periodical payment—सामयिक भुगतान ।
Parasitic nodules—परजीविका ग्रन्थिका ।	Payment—भुगतान, अदायगी ।	Periodical review—सामयिक समीक्षण ।
Parcel—पार्सल ।	Pay of establishment—संस्थापन का वेतन ।	Period of limitation—अवधि-काल ।
Pardon—(n.) क्षमा; (v.) क्षमा करना ।	Pay of officers—अधिकारियों का वेतन ।	Permanent—स्थायी ।
Parity—समानता, समता ।	Pay, personal—वैयक्तिक वेतन ।	Permanent advance—स्थायी अग्रवहन, स्थायी पेशगी ।
Park—उद्यान, संसदीय ।	Pay, progressive—बढ़ती वेतन, वर्धमान वेतन ।	Permanent lessee—स्थायी पट्टेदार ।
Parliamentary Secretary—सभा सचिव ।	Pay, special—विशेष वेतन ।	Permanently settled—स्थायी रूप से बन्दोबस्त किया हुआ ।
Parlour—बैठक ।	Pay, substantive—मौलिक वेतन ।	Permanent out-let—स्थायी निकास, पानी, निकलने का स्थायी मार्ग ।
Parole—पैरोल, वाग्दृष्टि, वाचिक ।	Pay, time-scale—कालानुक्रम वेतन ।	Permanent tenure-holder—स्थायी भू-वृत्तिधारी ।
Part—भाग, अंश, अंग ।	Peace propaganda—शान्ति प्रचार ।	Permit—(n.) अनुज्ञा पत्र; (v.) अनुज्ञा देना ।
Partial—आंशिक, पक्षपाती ।	Pebble—कंकड़, गिट्टी, बजरी ।	Perpetrate—अपराध करना ।
Partial allotment—आंशिक नियतन या बाँटा ।	Pecuniary—आर्थिक, धन-संबंधी ।	
Particular—(n.) विवरण, व्योरा, विशेष; (adj.) विशिष्ट ।	Pecuniary Loss—आर्थिक हानि ।	
Particular points—विशेष बातें	Pedagogy—शिक्षण विज्ञान ।	
Partition—बँटवारा ।	Pedestal—उपपीठ, पादपीठ, चौकी ।	
Partnership, Dissolution of—भागिता-भंग, साझेदारों का टूटना ।	Pedestrian—पैदल चलनेवाला ।	
Part Performance—आंशिक पालन ।	Peel—छीलना ।	
Part-time—अंशकालिक ।	Peg—खूंटी ।	
Part-time appointment—अंशकालिक नियुक्ति ।	Penal—दंडात्मक, दंडिक ।	
	Penalty—दंड, शास्ति ।	
	Pendant—लटकन, झूमकन ।	

Perpetual allowance—जायवत नत्ता ।	Pitching—उपनिधान ।	Portable—सुवाह ।
Perpetuate—जीवित रखना, कायम रखना ।	Pivot—चूल्हा, फौलक, घुंरी ।	Porter—भांरि, घुंरी ।
Persian script—फारसी लिपि ।	Place of trial—बिचार-स्थान ।	Post officer—पत्तन अधिकारी ।
Personal—व्यक्तिगत, वैयक्तिक, निजी, स्वीय, व्यक्ति ।	Plague—प्लेग, ताज्ज ।	Portrait—रूप चित्र ।
Personal allowance—वैयक्तिक नत्ता ।	Plain clothes police—गुफिया पुलिस ।	Positive—सनादमान, विश्वसनीय ।
Personal appearance—व्यक्तिगत उपस्थिति ।	Plaint—बाद-पत्र, अर्जी दावा ।	Possession—रखना ।
Personal appearance exempt from—व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त ।	Plaintiff—बादी ।	Post—डाक, पद, पेट, स्थान ।
Personal Assistants—वैयक्तिक सहायक ।	Plan—मापचित्र, आरेख, योजना ।	Postage stamps—डाक टिकट ।
Personal, executing—निष्पादन करने वाले व्यक्ति ।	Plant—पादप, पौधा, संयंत्र ।	Post and Telegraph Department—डाक और तार विभाग ।
Personal file—वैयक्तिक फाइल ।	Plant & Machinery—संयंत्र और मशीनें ।	Post master—पोस्टमास्टर, डाक पाण ।
Personal law—स्वधर्म-शास्त्र ।	Plantation—रोपण, बाग लगाना, वृक्ष-बालिका ।	Postal Life Insurance premium—डाक जीवन बीमा की दर ।
Personally—स्वयं, अपने आप ।	Plantation, Roadside—सड़क के किनारे बाग-बगीचे लगाना ।	Postal notice—डाक नोटिस ।
Personal pay—व्यक्तिगत वेतन ।	Plaster—पलस्तर, लेप ।	Posting—निर्वाणी, स्थानांतरण, भविवान ।
Personal remark—वैयक्तिक टिप्पणी ।	Plastic—गुनम्य ।	Postings and transfers—निर्वाणी और बदली ।
Persuade—समझाना, मनाना ।	Platoon—प्लेटून ।	Post mortem—मृत-परीक्षा ।
Peruse—पढ़ना, अवलोकन करना ।	Platoon Commander—प्लेटून कमांडर ।	Post office—डाकघर ।
Petition—याचिका, अर्जी ।	Playground—खेल का मैदान ।	Postponed—सुनतनी वरना ।
Petitioner—प्रार्थी ।	Pleader—वकील, अधिवक्ता ।	Postscript—परग-पत्र ।
Petition officer—प्रार्थी अधिकारी ।	Please quote—कृपया उद्धृत कीजिए ।	Post, permanent—स्थायी पद, स्थायी नौकरी ।
Petition respecting offence—अपराध-सम्बन्धी याचिका ।	Please report—कृपया रिपोर्ट कीजिए ।	Post, temporary—अस्थायी पद, अस्थायी नौकरी ।
Petition writer—याचिका लेखक ।	Plumb—साहूल ।	Posture—आसन, ङंग-गिराव ।
Petty—छोटा-मोटा, गुदरा ।	Plus and minus memo—घन और ऋण का स्मृतिपत्र ।	Post-war—युद्धोत्तर ।
Petty contingent expenditure—क्षुद्र प्रासंगिक व्यय ।	Pocket register—जेबी रजिस्टर ।	Post-war planning and development—युद्धोत्तर योजना और विकास ।
Petty establishment—क्षुद्र संस्थापन ।	Point—बिन्दु, नोक, बाण, विषय ।	Potash—पोटाश ।
Petty estimates—छोटे-मोटे त्रामीने ।	Pointing masonry—टीपकारी ।	Pouch—शेकी, थानी, थोथ ।
Petty works—छोटे-मोटे काम ।	Poison—विष ।	Pound—काँचीपाउन, पण, अस्तोपाउन ।
Physical assets—भौतिक सम्पत्ति ।	Police department—पुलिस विभाग ।	Powder—(क.)धुंकी, (ख.)धुंकी, (ग.)धुंकी ।
Physical training—व्यायाम-शिक्षण ।	Police force—पुलिस वा आरक्षी बल ।	Power—शक्ति, सामर्थ्य, शक्ता ।
Piece work—टुकड़ा ।	Police guard—पुलिस गार्ड ।	Power House Superintendent—विद्युत्घर अधिकारी ।
Piece work agreement—टुकड़े के काम का इकरारनामा ।	Police Office Manual—पुलिस कार्यालय पुस्तिका ।	Power of attorney—सुपुत्राधिकार, यत्तादानना, अधिकार-पत्र ।
Pier—पाया, गम्वा, स्तंभ, पानी में बना हुआ चबूतरा ।	Police recruit—पुलिस रजिस्ट ।	Power of authority—सुपुत्राधिकार, प्राधिकारनाम ।
Pile foundation—बूँटा नींव ।	Police Regulations—पुलिस-नियमा ।	Power of attorney—सुपुत्राधिकार ।
Pilgrim—तीर्थयात्री ।	Police station—थाना ।	Power, executor—सुपुत्राधिकारी का प्रयोग ।
Pilgrim pass—तीर्थयात्री पार-पत्र ।	Police Training School—पुलिस प्रशिक्षण संस्था ।	Power to receive—सुपुत्राधिकार ।
Pillar—गम्वा, पाया, स्तंभ ।	Policy—नीति, कार्य-नीति ।	Power to receive—सुपुत्राधिकार ।
Pillow-slip—गिन्नाक ।	Political sufferer—राजनीतिक पीडित ।	Power, vested—सुपुत्राधिकार ।
Pilot scheme—प्रायोगिक योजना ।	Polling booth—निर्वाण स्थान, वोट देने का स्थान ।	Power, vested—सुपुत्राधिकार ।
Pioneer—पुणेगामी ।	Polygon—बहुभुज ।	Power, vested—सुपुत्राधिकार ।
Pitoplasmosis—संत्रासन, पित्त रज ।	Pond—झुंड, धान ।	Power, vested—सुपुत्राधिकार ।
Pistol—फिरौस ।	Populace—सामान्य जनता ।	Power, vested—सुपुत्राधिकार ।
	Population—जनसंख्या ।	Power, vested—सुपुत्राधिकार ।
	Pottery—सिँटन, मरत ।	Power, vested—सुपुत्राधिकार ।
	Post—बंदरगाह, पत्र ।	Power, vested—सुपुत्राधिकार ।

Preamble—प्रस्तावना, आमुख ।	Presentation by unauthorized person—अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुति ।	Prize—इनाम, पारितोषिक, पुरस्कार ।
Pre-audit—पूर्व लेखा-परीक्षा ।	Presentation of documents—लेख-पत्रों की प्रस्तुति ।	Probate—इच्छा-पत्र प्रमाण ।
Precaution—पूर्वोपाय ।	Presented—प्रस्तुत ।	Probation—परिवीक्षा ।
Precede—पहिले आना या होना ।	Preservative—परिरक्षक, परिरक्षी ।	Probationary period—परिवीक्षाधीन काल ।
Precedence—पूर्वता, अग्रता ।	Presidency town—महानगर ।	Probationer—पारीक्षणिक ।
Precedent—पूर्व दृष्टान्त, पूर्व निर्णय, मिसाल ।	Presiding—अधिष्ठाता ।	Procedure—क्रियाविधि, प्रक्रिया ।
Precept—आदेश, आदेशिका, उपदेश ।	Presiding officer—प्रधान अधिष्ठाता ।	Proceedings—कार्यवाही, काररवाई ।
Precise—परिशुद्ध ।	President—सभापति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति ।	Proceeds—आगम ।
Precursor—पूर्वाधिकारी ।	Presumption—प्रकल्पना ।	Process—प्रक्रम, प्रक्रिया, आदेशिका ।
Predisposing—पुरः प्रवर्तक ।	Presumptive pay—प्रकल्पित ।	Process fees—प्रक्रिया शुल्क ।
Pre-emption—हक शफा, पूर्वक्रय ।	Pretence—बहाना ।	Processing—उपयोगीकरण ।
Preferable—अधिमान्य ।	Preventive—निरोधक, निवारक, प्रति-बंधक, रोगनिवारक ।	Process of cleaning—सफाई की प्रक्रिया ।
Preferably—अच्छा तो हो कि ।	Preventive inoculation—रोग-निवारक टीका ।	Process server—आदेशिका को तामील करनेवाला ।
Preference—तरजीह, अधिमान, अभि-रुचि ।	Preventive measures—निवारक उपाय ।	Proclamation—घोषणा, ऐलान ।
Prefix—(n.) उपसर्ग; (v.) पहिले लगाना या जोड़ना ।	Previous—पहिला, पूर्व, पिछला ।	Procure—वसूल करना, प्राप्त करना ।
Prejudice—पक्षपात, प्रतिकूल प्रभाव ।	Previous sanction—पूर्वस्वीकृति, पूर्व मंजूरी ।	Procuress—कुटनी, दूती ।
Preliminary—प्रारम्भिक ।	Prima facie—प्रथम दृष्टि में ।	Production—उत्पादन, उत्पाद, पैदा, पैदावार ।
Preliminary objection—प्रारंभिक आपत्ति ।	Primary School—प्रारम्भिक पाठ-शाला ।	Profession—वृत्ति, पेशा, व्यवसाय ।
Preliminary report—प्रारम्भिक रिपोर्ट ।	Primary unit—प्राथमिक इकाई ।	Professional—व्यवसायिक ।
Preliminary statement of expenses and savings—अधिक व्ययों और बचतों का प्रारंभिक विवरण-पत्र ।	Primary units of appropriation—विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ ।	Professional College—व्यवसायिक विद्यालय ।
Premature—प्राक्पक्व ।	Primary units of expenditure—व्यय की प्राथमिक इकाइयाँ ।	Proficiency—प्रवीणता ।
Premature release—प्राक्पक्व रिहाई ।	Prime-mover—मुख्य या प्रथम चालक ।	Proficient—प्रवीण ।
Premier—प्रधान मंत्री ।	Principal—(adj.) प्रधान, मूल; (n.) प्रधानाचार्य मूलघन ।	Profit and loss account—लाभ-हानि लेखा ।
Premium—प्रीमियम, अधिमूल्य ।	Principal rafter—मुख्य धरन ।	Proforma—नियमानुरूप ।
Prepare—तैयार करना, बनाना ।	Principle—सिद्धान्त, तत्त्व, प्रमुख नियम ।	Proforma account—कच्चा लेखा ।
Preparatory to retirement—निवृत्ति-पूर्व, निवृत्ति से पहले ।	Printing—मुद्रण, छपाई ।	Proforma defendant—प्रोफार्मा प्रति-वादी ।
Preparation of fair letters—परिष्कृत पत्रों को तैयार करना ।	Priority—आदिता, पूर्वता, अग्रता, प्राथमिकता ।	Proforma respondent—प्रोफार्मा प्रत्यर्थी ।
Preponderance—प्रबलता, प्राधान्य ।	Prismatic compass—प्रिज्मी कुतुब-नुमा ।	Programme—कार्यक्रम ।
Prescribe—विहित करना, निर्धारित करना ।	Prisoner—कैदी, बन्दी, कारावन्दी ।	Progress—प्रगति, उन्नति ।
Prescribed—निर्धारित, विहित, नियत ।	Prisoner Ledger—कारागार खातावही ।	Progressive—प्रगतिशील, वर्धमान, क्रमिक ।
Prescribed form—नियत या विहित फारम ।	Prison offences—जेल के अपराध ।	Progressive decline—क्रमिक गिरावट या कमी ।
Prescribed minimum expenditure—नियत न्यूनतम व्यय ।	Prison van—कैदी गाड़ी ।	Progressive Party—प्रगतिशील दल ।
Prescribing the form—रूप का निर्धारण करते हुए ।	Private—निजी, वैयक्तिक, अशासकीय ।	Progressive pay—वर्धमान वेतन ।
Prescription—नुसखा, भोगाधिकार, चिरभोग ।	Private candidate—प्राइवेट परीक्षार्थी ।	Progress report—प्रगति रिपोर्ट ।
Presentation—उपस्थापन, उपहार, प्रस्तुति ।	Private person—गैरसरकारी व्यक्ति ।	Progress statement—प्रगति विवरण-पत्र ।
	Privilege leave—विशेषाधिकार छुट्टी ।	Prohibited—निषिद्ध ।
	Privy—श्रीचघर ।	Prohibition—मद्यनिषेध, नशावन्दी, निषेध, प्रतिषेध ।
		Prohibition articles—निषिद्ध वस्तुएँ ।
		Project—योजना, प्रायोजना ।

Projection—प्रक्षेप, प्रक्षेपण ।	Provincialization—प्रान्तीयकरण ।	Pure—शुद्ध, विष्णु ।
Prominent—प्रमुख, प्रघात ।	Provincial return—प्रान्तीय नकला ।	Pursue—पैदाशुद्धता, अनुसरण करना ।
Promissory note—सख्त, वचन-पत्र ।	Provisional—अस्थायी, अस्थायिक ।	Purview—सीमा, अधिकार, कानून का मंत्र, विस्तार ।
Promotion—पदोन्नति, तरक्की ।	Provisional appointment—अस्थायी नोकरी ।	Putrefaction—पूजन, मृत्यु ।
Promulgation—प्रख्यापन, एतान ।	Provisional substantive—अस्थायी नून ।	Pyramid—सुईकर्म, विरासिद्ध ।
Proof—प्रमाण, उपपत्ति, मिट्टि ।	Provision—व्ययस्था, पाठ-नामपत्री, उपबंध, जत ।	
Propaganda—प्रचार ।	Provision of sections—धाराओं के उपबंध ।	Q
Property—सम्पत्ति, जायदाद, गुण, गुण-धर्म ।	Proviso—प्रतिबंध, उपबंध, शर्त, परंतुक ।	Quadrangle—चतुर्भुज ।
Proportion—अनुपात, समानुपात ।	Proxy—प्रतिपत्र, प्रतिपथी ।	Quadrant—माप, चतुर्भुज ।
Proportionate—आनुपातिक, समानुपाती ।	Pseudonymous communications—कृतक नाम से लिखियां ।	Quadratic equation—द्वि-घात समीकरण ।
Proportionate pension—आनुपातिक पेंशन ।	Public Accounts Committee—सरकारी लेखा समिति ।	Quadrennial—चतुर्बर्षीय ।
Propose—प्रस्ताव करना, प्रस्तापित करना ।	Public affairs—सार्वजनिक मामले ।	Quadruplicate—चौगुना, चार प्रतियां ।
Proposed estimate—प्रस्तापित तख-मीना, प्रस्तापित प्राकलन ।	Publication—प्रकाशन ।	Qualification—योग्यता, उपाधि, उपाय ।
Proposition statement—प्रस्ताव विवरण-पत्र ।	Public conveyance—किराये की गाड़ी, नाड़े की गाड़ी ।	Qualified—योग्य, योग्यता-प्राप्त ।
Proprietary cultivation—स्वाम्य काल्य	Public Health—सार्वजनिक स्वास्थ्य ।	Qualify—योग्यता प्राप्त करना, योग्य बनना, योग्यता प्राप्त करना ।
Proprietor—स्वामी, स्वत्वधारी ।	Public Health Department—सार्व-जनिक स्वास्थ्य विभाग ।	Qualifying for pension—पेंशन के लिये योग्य होना ।
Proprietary right—स्वाम्याधिकार ।	Publicity—प्रकाशन, प्रचार, विज्ञापन ।	Quantity—मात्रा, मात्रा, द्रव्य, परिमाण ।
Propulsion charges—नौदन व्यय ।	Public interest—सार्वजनिक या लोक-हित ।	Quarantine—रक्तबीजा, विराम, समबंधन ।
Pro-rata—यथानुपात ।	Public officers—सार्वजनिक अधिकारी ।	Quarantine Leave—समबंधन छुट्टी ।
Prosecuting Inspector—अभियोजन निरीक्षक ।	Public purpose—सार्वजनिक उद्देश्य ।	Quarry Charts—मापन या माप-चित्र ।
Prosecution—अभियोजन, चालान ।	Public safety—जन सुरक्षा ।	Quarter—विभाग-भूतः, चोपार्ड ।
Prospectus—विवरण-पत्र, विवरणिका ।	Public servant—लोक सेवक ।	Quarterly—चौमासिक, तिमासी ।
Prostitution—वेश्यावृत्ति, वेश्याकर्म ।	Public Service—लोक-सेवा ।	Quarterly reports—चौमासिक विवरण ।
Protected monuments—अभिलेखित स्मारक ।	Public Service Commission—लोक सेवा आयोग ।	Quarterly statement—चौमासिक विवरण-पत्र ।
Protection—रक्षा, सुरक्षा, सुरक्षण, बचाव, संरक्षण ।	Public utility—सार्वजनिक उपयोगिता ।	Quash—नष्टि करना ।
Protector of emigrants—उत्प्रवासी संरक्षक ।	Public Works Department—सार्व-जनिक निर्माण विभाग ।	Quasi permanent—अधस्थायी ।
Protest of bill or note—टूट्टी या खता के न मजबूत के विरोध-पत्र ।	Public utility—सार्वजनिक उपयोगिता ।	Query—प्रश्न, मापन ।
Provided by the rule—नियम द्वारा निरहित किया गया ।	Pump and jet—पंप-नामपत्री ।	Questionaire—सन्धानपत्री ।
Provided that—जहाँ यह है कि ।	Punching—पंच करना ।	Questionaire for inspection office—निरीक्षण कार्यालय के लिये प्रश्नपत्री ।
Province—प्रान्त, प्रदेश, जनपद ।	Punching and cancellation of court fee stamp—न्याय दफ्तर के लिये टिकट और रद्दीकरण करना ।	Question of Public, श्रेष्ठि का प्रश्न ।
Provincial—प्रान्तीय ।	Punishable—पंडनीय, दण्ड योग्य ।	Question paper—परीक्षा-पत्र ।
Provincial Armed Constabulary—प्रान्तीय सशस्त्र रक्षिकर्म ।	Punishment—दण्ड, सजा ।	Quorum—संख्या, संख्या ।
Provident fund—निधि-विधि, निधि-निधि ।	Punitive clause—दण्ड-धारा-प्रधान ।	Quorum—संख्या, संख्या ।
Provincial Government—प्रान्तीय सरकार ।	Purchase—खरीद, अधिपति ।	Quorum—संख्या, संख्या ।
Provincial Grain Account—सर्व-भोग पत्र लेखा ।	Purchasing—खरीद, अधिपति ।	

Rail—रेल की पटरों ।
 Railing of horses—घोड़ों का कटघरा ।
 Railway—रेलवे, रेल ।
 Railway Administration—रेलवे प्रशासन ।
 Railway approach road—रेल तक पहुँचने की सड़क ।
 Railway crossing—रेल का फाटक ।
 Railway feeder road—रेलवे पोषक सड़क ।
 Railway Protection Police—रेलवे रक्षा पुलिस ।
 Railway receipt—बिल्टी ।
 Railway runner—रेल हरकारा ।
 Rainfall—वर्षा, वृष्टि ।
 Rain gauge—वर्षामापी ।
 Raise an alarm—हल्ला मचाना ।
 Ramp—ढाल, ढलान ।
 Random—यादृच्छिक, बेतर्तीव ।
 Range—क्षेत्र, इलाका, प्रक्षेत्र, मंडल ।
 Rank—पदवी, पद, ओहदा, दर्जा, कोटि ।
 Rank and file—साधारण सैनिक वर्ग ।
 Rankers—सिपाहियों की श्रेणी ।
 Rate-analysis of road metal—सड़क के कंकड़ का दर-विश्लेषण ।
 Rate of exchange—विनिमय-दर ।
 Rate of pay—वेतन-दर ।
 Ration—रसद, राशन ।
 Raw—कच्चा, अनुभवरहित, अपक्व, असंस्कृत ।
 Raw-material—कच्चा माल, उपादान ।
 Re-admission—पुनःप्रवेश ।
 Re-affirm—पुनः पुष्ट करना, पुनः प्रतिज्ञा करना ।
 Realization—उगाही, प्राप्ति, वसूली ।
 Realization, charitable—धर्मार्थ चन्दा ।
 Realizing—अनुभव करते हुए, वसूल करते हुए ।
 Re-appropriation—पुनर्विनियोग ।
 Re-appropriation of funds—निधि का पुनर्विनियोग ।
 Rearmament—पुनः शस्त्रीकरण ।
 Rearrange—पुनर्विन्यास करना ।
 Rebate—छट, कटौती ।
 Recall from leave—छुट्टी से वापस बुलाना ।
 Recapture—पुनः बंदी बनाना ।
 Recast—पुनः ढलाई करना ।
 Receipt—रसीद, प्राप्ति, वसूली, पावती ।
 Receipt book—रसीद वही ।

Receipt book for fees and fines—शुल्क तथा अर्थदंड की प्राप्ति पुस्तिका ।
 Receipt preservation and disposal of records—अभिलेखों की प्राप्ति, परिरक्षा और निर्वर्तन ।
 Receiver—पानेवाला, प्राप्ता, ग्राही, प्रापक, आदायक, गृहीता ।
 Recent—हाल का, अभिनव ।
 Recent date—हाल की तारीख ।
 Receptacle—आशय, घानी, आधार ।
 Reception—स्वागत, स्वागत समारोह ।
 Recess—अवकाश, विश्रांति-काल ।
 Recess leave—विश्राम छुट्टी ।
 Recital—प्रस्तुति, गायन ।
 Recipient—पानेवाला, आदाता ।
 Reciprocity—पारस्परिकता, अन्योन्यता, परस्परता ।
 Reclamation—संशोधन, भूमि उद्धार ।
 Recognisable—पहचानने योग्य ।
 Recognise—मानना, पहचानना, मान्यता देना या प्रदान करना ।
 Recognised Agent—मान्यताप्राप्त या मान्य अभिकर्ता ।
 Racognizance—मुचलका ।
 Recollect—स्मरण करना ।
 Recollection—स्मरण ।
 Recommendation—सिफारिश ।
 Reconcile the discrepancy—त्रुटियों को ठीक करना, असंगति समाधान करना ।
 Reconnection—पुनर्योजन ।
 Reconnaissance—वीक्षण, टोह, प्रारंभिक सर्वेक्षण ।
 Reconsideration—पुनर्विचार ।
 Raconstitution—पुनर्गठन ।
 Reconstruction of tube-wells—कूपों का पुनर्निर्माण ।
 Record—अभिलेख ।
 Recorded—अभिलिखित ।
 Record-in-charge—अभिलेखाधिकारी ।
 Record-keeper—अभिलेख-पाल ।
 Record-officer—अभिलेख अधिकारी ।
 Records of rights—अधिकार अभिलेख ।
 Record of service—सेवा-वृत्त ।
 Record of the case specified below—नीचे निर्दिष्ट मुकदमे की मिसिल ।
 Record plans—सुरक्षित मानचित्र ।
 Record room—अभिलेखशाला ।
 Recover—वसूल करना, पुनः प्राप्त करना ।
 Recovery—पुनः प्राप्ति, उपलब्धि, वसूली ।

Recovery List—वसूली की सूची ।
 Recreation—मनोरंजन ।
 Recreative leave—मनोरंजन की छुट्टी ।
 Recruit—(n.) रंगरूट; (v.) भर्ती करना ।
 Racruitment—भरती ।
 Rectangle—आयत ।
 Rectification of accounts—लेखा शोधन ।
 Rectification of error—अशुद्धि शोधन ।
 Rectify—सुधारना, ठीक करना, परिशोधन करना ।
 Rector—अधिष्ठाता ।
 Recuperate—पुनः बल प्राप्त करना ।
 Recurring—आवर्तक, आवर्ती ।
 Recurring grant—आवर्ती अनुदान ।
 Redeem—निष्क्रय करना, रुपया देकर लौटा लेना, बन्धक छुड़ाना, मोचन करना, हंडी के बदले रुपया देना ।
 Redeemable—चुकाने योग्य, निष्क्रय, मोच्य ।
 Redemption—मोचन, विमोचन, निष्क्रमण, छुड़ाना ।
 Redemption of mortgages—बन्धक मोचन, बंधक छुड़ाना ।
 Red ink—लाल रोशनाई ।
 Reduce—पदावनत करना, घटाना, कम करना ।
 Reduced rates—घटायी दर, कम किये हुआ भाव ।
 Reduction—कमी, कटौती, घटाव ।
 Reduction to a lower post—निम्नतर पद पर किया जाना ।
 Redundancy—अतिरिक्तता ।
 Redundant—अतिरिक्त ।
 Red water (Cattle Piroplasmosis)—लाल मूत्र रोग (पशुओं का) ।
 Re-employ—पुनर्नियुक्त करना ।
 Re-employment—पुनर्नियुक्ति ।
 Refer—हवाला देना, उल्लेख करना, निर्देश करना ।
 Reference—हवाला, संदर्भ, निर्देशन ।
 Reference clerk—हवाला लिपिक ।
 Reference Table—निर्देशन सारिणी ।
 Referential—निर्देशनीय ।
 Referring department—निदेशक विभाग ।
 Reflection—प्रतिबिंब, परावर्तन ।
 Reflector—परावर्तक प्रकाशक्षेपी ।
 Reform—(n.) सुधार; (v.) सुधार करना ।

Reformation—सुधार ।
 Reformative—सुधारणत्मक ।
 Reformatory—सुधारानलय ।
 Refraction—वर्तन ।
 Refresher Course—नवीकर पाठ्यक्रम ।
 Refugee—शरणार्थी ।
 Refund—वापसी ।
 Refund of fees—फीस की वापसी ।
 Refunds and renewals—रुपये की वापसी और नवीनीकरण ।
 Refund voucher—रुपये के वापसी का पुर्जा ।
 Refusal—अस्वीकार, अस्वीकृति ।
 Refuse—अस्वीकार करना ।
 Regarding—के विषय में, के बारे में ।
 Region—प्रदेश, क्षेत्र, इलाका ।
 Regional Accounts Officer—प्रादेशिक लेखा अधिकारी ।
 Regional grain account—प्रादेशिक अन्न लेखा ।
 Register—पंजी, पंजिका ।
 Register, attendance—उपस्थिति पंजी ।
 Register books—पंजिका पुस्तक ।
 Registered—रजिस्ट्री किया हुआ, पंजीकृत, पंजीकृत ।
 Registered graduates—पंजीकृत स्नातक ।
 Registered medical practitioner—पंजीकृत चिकित्सक ।
 Register-keeper—पंजीपान ।
 Register of agreements—द्वारारा-नामों की पंजी ।
 Register of calamities—आपदा पंजी ।
 Register of estates—रियानतों की पंजी ।
 Register of groves—बागों की पंजी ।
 Register of thumb impressions—अंगुष्ठ निशानों की पंजिका ।
 Register of non-tamentary documents relating to immovable property—अचल संपत्ति-सम्बन्धी दस्तावेजों की पंजिका ।
 Register of recording transactions relating to the deposit and withdrawal of sealed cover—मालकादर किताबों के उद्घाटन दस्तावेजों की पंजी ।
 Register of recording of powers of attorney

authenticated—प्रमाणित प्रतिनिधि-पदों के उन्मेषों की पंजिका ।
 Register of entering wills and authorities to adopt—इच्छा पदों और गोद लेने के अधिकार-पत्रों की पंजिका ।
 Register of entering documents to movable property—चलसंपत्ति-सम्बन्धी लेखपत्रों की पंजिका ।
 Registered documents—पंजीकृत लेखपत्र ।
 Registering officer, direction of—पंजीयन अधिकारी के आदेश ।
 Registering officer—पंजीयन अधिकारी ।
 Register of patients—रोगी पंजिका ।
 Register of correspondence—पत्र-व्यवहार पंजिका ।
 Registered address—पंजीकृत पता ।
 Registered letter—रजिस्ट्री चिट्ठी ।
 Registrar—पंजीयक, कुलसचिव ।
 Registration—पंजीयन, पंजीकरण ।
 Registration Act—पंजीयन अधिनियम ।
 Registration establishment—पंजीयन संस्थापना ।
 Regular—नियमित, सम, न्यायी, सम्यक्त ।
 Regular channel—नियमित मार्ग ।
 Regular forecast—नियमित पूर्वानुमान ।
 Regularise—नियमित करना ।
 Regulated—नियमित, निर्धारित ।
 Regulation—नियमन, विनियमन, विनियम ।
 Regulation of examination—परीक्षा का विनियम ।
 Regulation, University—विश्वविद्यालय का विनियम ।
 Regulator—नियामक, विनियामक ।
 Re-imbursement—प्रतिपूर्ति, वापसी ।
 Re-import—दुन: आयात ।
 Reinforcement—प्रबल, प्रबलीकरण, बलवर्धन ।
 Reinstatement—पुनर्स्थापन, बहाली ।
 Reiterate—दुन: कहना ।
 Rejected—अस्वीकृत, नष्ट ।
 Rejinder—सुधार, सुधारण ।
 Relaxation—धीन, आराम, छुट्टि, आराम, आराम ।
 Relaxation of discipline—अनुशासन-सुलभता ।
 Relaxed—निर्मित, आराम, आराम ।

Release—चोवन, मनोमन, मुक्ति, छुटकारा, विमुक्ति, निर्धार, छुट; (r.) मुक्त करना, छोड़ना, निर्धार करना ।
 Release, duty on—निर्धारित-वार पर मुक्त ।
 Relevant—संगत, संबन्ध ।
 Relief—सहायता, राहत, अवसोय उधार, राहत ।
 Relief parties—सहायतापत्री दलिका ।
 Relieving—सहायकारी, सुधारी ।
 Relieving officer—सहायकारी अधिकारी ।
 Religious instruction—धार्मिक शिक्षा ।
 Relinquishment of land—भूमि का अधिकार त्याग ।
 Remand case—प्रतिवर्तित विवाद ।
 Remanded—प्रतिवर्तित ।
 Remark—वैकल्य, टिप्पणी ।
 Remedy—उपाय, उपाय, उपाय ।
 Reminder—संस्मरण, अनुस्मरण ।
 Reminder form—अनुस्मरण-पत्र ।
 Remission—छुट, क्षमा, क्षमा, परिहार ।
 Remission of fine—अपरत की क्षमा ।
 Remit—भेजना, परिहार करना, छुट देना ।
 Remittance—वैधान, भेजना, भेजने का रकम ।
 Remittance transactions—वैधान व्यवहार ।
 Remodel—नया रूप देना ।
 Removal—नया जगह, नया, निराकरण ।
 Remunerate—सहिष्णुता या सेवा-माना देना ।
 Remuneration—सहिष्णुता ।
 Remuneration of constabulary officers—सहिष्णुता अधिकारियों का सहिष्णुता ।
 Rendering—दिया ।
 Renew—नया या मरत करना, पुन: आराम ।
 Renewal—सहिष्णुता, पुन: आराम, साहित्य ।
 Renewal of license—छुट्टी का नवीनीकरण ।
 Renewal of lease—सहायकारी नवीनीकरण ।
 Renewal of lease of land—सहायकारी नवीनीकरण ।
 Renewal of lease of land—सहायकारी नवीनीकरण ।

Rent assessment—लगान निर्धारण ।
 Rent-free quarter—ब्रे - किराये का निवासस्थान ।
 Rent statement—किराये का विवरण ।
 Reorganisation—पुनर्गठन ।
 Repair—मरम्मत, सुधार ।
 Repatriate—देश को लौटाना, देश-प्रत्यावर्तन ।
 Repay—ऋण चुकाना, शोधन करना ।
 Repeal—(n.) निरसन; (v.) निरसन करना ।
 Repealed—निरासित ।
 Repeat—दोहराना, आवृत्ति करना ।
 Replace—प्रतिस्थापितकरण, बदलना ।
 Replacement—प्रतिस्थापन, बदल, बदलाई, बदलान ।
 Replenished—पुनर्भरित ।
 Report—(n.) विवरण, प्रतिवेदन, रपट, सूचना, इतिवृत्त; (v.) सूचना देना, रपट लिखाना ।
 Reporter—प्रतिवेदक, संवाददाता ।
 Report of occurrence—घटना की सूचना ।
 Report of officer—अधिकारी की सूचना ।
 Repose, angle of—विश्राम कोण ।
 Represent—अभिवेदन करना, निरूपण करना, प्रतिनिधित्व करना ।
 Representation—प्रतिवेदन, अभि-वेदन ।
 Representative—(n.) प्रतिनिधि; (adj.) प्रतिनिधिक ।
 Representative fraction—उपलक्षक भाग ।
 Reproduce—हूबहू लिखना, ठीक वैसा ही कहना ।
 Republic—गण-राज्य ।
 Republication—पुनः प्रकाशन ।
 Repugnant—प्रतीप, विरुद्ध ।
 Request—निवेदन, प्रार्थना ।
 Requiring—आदेश देते हुए, अपेक्षा करते हुए ।
 Requisition—माँग, अधियाचन, अधि-ग्रहण ।
 Requisitioner—अधियाचक ।
 Requisitioning authority—अधि-याचक अधिकारी ।
 Requisition slip—माँग-पत्र ।
 Re-registration—पुनः पजीयन ।
 Rescind—रद्द करना, मंजूर करना ।
 Rescue Home—बचाव गृह ।

Rescue officer—बचावधिकारी ।
 Research—गवेषणा, अनुसंधान ।
 Research Institute—गवेषणालय ।
 Research officer—अनुसंधान अधिकारी ।
 Reserve—आरक्षण, प्रारक्षण ।
 Reservation—आरक्षण, प्रारक्षण ।
 Reservoir—जलाशय, कुंड, हौज, जलाधार ।
 Re-settlement—फिर से बसाना, पुनः स्थापन ।
 Residence—आवास, निवास, पदावास ।
 Residence of students—विद्यार्थी निवास ।
 Resident Engineer—स्थानिक इंजिनियर या अभियन्ता ।
 Residential quarter—निवास-भवन ।
 Residue—अवशेष ।
 Resignation—त्यागपत्र, इस्तीफा ।
 Resignation from public service—लोक सेवा से त्यागपत्र देना ।
 Resistance—प्रतिरोध ।
 Resjudicata—प्राङ्गन्याय ।
 Resolution—प्रस्ताव, संकल्प ।
 Resource—साधन ।
 Respectively—क्रमशः, क्रमानुसार ।
 Respondent—प्रत्यर्थी ।
 Responsibility—उत्तरदायित्व, दायित्व, जिम्मेदारी ।
 Responsible—उत्तरदायी, जिम्मेदार ।
 Resitution—वापसी, लौटाना, पुनरा-स्थापन ।
 Restore—फेर देना, लौटाना, पुनः स्थापन करना ।
 Restrain from doing—करने से रोकना ।
 Restraint by court—न्यायालय द्वारा नियंत्रण ।
 Restrict—सीमित करना, निर्वृद्ध करना ।
 Restriction—प्रतिबन्ध, रोक, पावदी, निबंधन ।
 Rest-House—डाक बंगला ।
 Restriction and Control—प्रतिबन्ध और नियंत्रण ।
 Result—फल, परिणाम ।
 Resume—प्रत्यादान करना, पुनर्ग्रहण करना, पुनरारंभ करना ।
 Resumption—पुनर्ग्रहण, प्रत्यादान, पुन-रारंभ ।
 Retailer—फुटकर बेचनेवाला, खुदरा व्यापारी ।
 Retail price—फुटकर भाव ।
 Retainer—प्रतिधारण कर्ता ।

Retard—रोकना ।
 Retardation—मंदन ।
 Retention—धारण, अवरोधन ।
 Retire—निवृत्त होना, सेवा निवृत्त होना ।
 Retired—निवृत्ति-प्राप्त ।
 Retirement—निवृत्ति ।
 Re-totalling of marks—प्राप्ताक का पुनः योग ।
 Retrenchment—छुटनी ।
 Retrograde—पश्चगामी ।
 Retrospective effect—पूर्व व्याप्ति ।
 Return—विवरणी, लेखा, वापसी, उत्तर ।
 Return of major and minor works—बड़े और छोटे निर्माण कार्यों की विवरणी ।
 Revenue—राजस्व, मालगुजारी ।
 Revenue account—राजस्व लेखा, आय-व्यय लेखा ।
 Revenue Administration—राजस्व प्रशासन ।
 Revenue Administration Report—राजस्व प्रशासन सूचना ।
 Revenue defaulter—राजस्व का बाकी-दार ।
 Revenue free tenure—भू-राजस्व मुक्त-जोत ।
 Revenue jurisdiction—राजस्व अधि-कार-क्षेत्र ।
 Revenue paying mahals—राजस्व देनेवाले महाल ।
 Revenue Reserve Fund—अनुरक्षण-आरक्षित निधि ।
 Revenue Stamp—राजस्व स्टाम्प ।
 Revered—सम्मानित ।
 Reverse—उल्टा, विपरीत, प्रतिलोम ।
 Reversion—प्रतिवर्तन, प्रत्यावर्तन, परा-वर्तन, उत्तरभोग ।
 Reversioner—उत्तरभोगी ।
 Reversioner, release by Hindu—हिन्दू उत्तर भोगी द्वारा मोचन या त्याग ।
 Reversion to land-lord—भू-स्वामी को प्रतिवर्तन ।
 Revert—प्रत्यावर्तित होना ।
 Revetted—जोड़ा हुआ, रिवीट किया-हुआ ।
 Review—पुनर्विलोकन, समीक्षा ।
 Review application—पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र ।
 Review of judgment—निर्णय का पुनर्विचार ।

Scattered thunder showers—जहाँ-तहाँ कड़क के साथ बूँदें पड़ना।
 Scene of outbreak—रोग फैलने का स्थल।
 Schedule—अनुसूची, तालिका, सूची, सारणी।
 Scheduled—अनुसूचित।
 Scholarship—छात्रवृत्ति, वजीफा।
 Scholar's register—छात्र रजिस्टर।
 School clerk—स्कूल क्लर्क, विद्यालय, लिपिक।
 Science—विज्ञान।
 Scientific Research Committee—वैज्ञानिक अनुसंधान समिति।
 Scored out—काट दिया गया।
 Scouring—जल वेग से मिट्टी का कटाव।
 Scout—स्काउट, बालचर।
 Scrap—(v.) छीलना, खुरचना; (n.) कतरन, रद्दी माल, खुरचा, रगड़।
 Screen—परदा, यवनिका, आवरण, चिक।
 Script—लिपि।
 Scrutiny—संवीक्षा, छानवीन।
 Sculpture—मूर्तिकला।
 Scum—मैली, मली।
 Seal—(v.) मुद्रा या मोहर लगाना, बंद करना; (n.) मुहर, मुद्रा।
 Sealed samples—मुहर बंद नमूने।
 Search—तलाशी, खोज।
 Search and grant of copies—प्रतिलिपियों की तलाश और स्वीकृति।
 Searching post—तलाशी की चौकी।
 Season conditions—मौसम की हालत या अवस्था।
 Seasonal consumers—मौसमी उपभोक्ता।
 Seasonal fever—फसली बुखार, ऋतु-ज्वर।
 Seasonal load—मौसमी भार।
 Seat of outbreak—शुरू होने का स्थान।
 Secant—छेदिका।
 Seclusion—एकान्त, अलहदगी, अलग किया जाना।
 Second appeal—द्वितीय अपील।
 Secondary education—माध्यमिक शिक्षा।
 Second session—दूसरा सत्र।
 Secretary Board of Revenue—माल बोर्ड के सचिव, सचिव मालबोर्ड।
 Secretary of State—मंत्री।
 Secretary to Government Uttar

Pradesh Economics and Statistics Department—उत्तर प्रदेशीय सरकार के अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी विभाग के सचिव।
 Secret Service Charges—गुप्त व्यय, खुफिया व्यय।
 Section—धारा, अनुभाग, काट, खंड।
 Section, Cross—अनुप्रस्थ बाट।
 Section leader—टुकड़ी नायक, सेक्शन लीडर।
 Section, long—लम्बानी काट, अन्वयात काट।
 Sector—क्षेत्र, क्षेत्रक, खंड।
 Secular—धर्म निरपेक्ष, लौकिक, चिरन्तन।
 Secular education—लौकिक शिक्षा, लोकपरक शिक्षा।
 Secure—प्राप्त करना, लब्ध करना।
 Security—जमानत, प्रतिभूति, प्रतिभू, सुरक्षा, ऋण-पत्र।
 Security Bond—प्रतिभूति पत्र।
 Sedition—राजद्रोह।
 Seepage drain—प्रस्राव नाली।
 Segment—खंड।
 Seizure—कुड़की, कब्जा, अमिग्रहण।
 Select—चुना हुआ।
 Selection Committee—चुनाव समिति।
 Self-defence—आत्मरक्षा।
 Self-explanatory—स्वतःस्पष्ट।
 Senate—सीनेट, अधिसभा।
 Senior—प्रवर, बड़ा, ज्येष्ठ, वरिष्ठ।
 Seniority—ज्येष्ठता, प्रवर्तता, वरिष्ठता।
 Sentence—दंडादेश।
 Sentence in lieu of fine—अर्थदंड के बदले कारावास दंड, जुर्माने के बदले में दंड की सजा।
 Sentence of death—प्राणदंड आज्ञा।
 Sentence of imprisonment—कारावास दंड, कद की सजा।
 Sentencing authority—सजा करने वाला अधिकारी, दंड आज्ञा देनेवाला अधिकारी।
 Sentry—सन्तरी।
 Separate confinement—अलग बंद करना, पृथक् बंधन।
 Separate interest—पृथक् हित।
 Separately assessed—अलग कर या लगान निर्धारित किया गया।
 Sequence—अनुक्रम, सिलसिला, आनुपूर्व्य, कथाक्रम।

Sergeant—सारजेंट।
 Serial—क्रमिक, धारावाही।
 Serially—अनुक्रमशः, यथाक्रम, सिल-सिलेवार।
 Serialise—क्रमबद्ध करना।
 Serial number—क्रमसंख्या, क्रमांक।
 Serpentine—सर्पिल।
 Serum—रक्तोद, लस।
 Servant—नौकर, सेवक भृत्य, कर्मचारी।
 Serve—तामील करना।
 Service Book—सेवापुस्तिका।
 Service Postage Stamp—डाक के सरकारी टिकट।
 Servitude—युधिधा-भार।
 Session—सत्र, अधिवेशन।
 Set aside—खारिज करना, रद्द करना।
 Set at liberty—मुक्त कर देना, छोड़ देना, रिहा करना।
 Set off—समंजन, मुजराई।
 Settlement—बन्दोबस्त, भू-व्यवस्था, निश्चय, निपटारा, समझौता।
 Settling of cultivators—कृषकों को बसाना।
 Severalty—पार्थक्य, पृथक्त्व।
 Sewage disposal—मल-निर्यास।
 Sewer—गंदी नाली, मल नाली, मल मोरी।
 Sex—लिंग।
 Sex-perversity—अप्राकृतिक काम दासना।
 Sextan—षष्ठक।
 Sexual—यौन, लैंगिक।
 Shade—कांति, छाया।
 Shaft—दंड, धुरा, कांड, नाल, कूपक, लाट।
 Shallow—कम गहरा, उथला, छिछला, हलका, ओछा, ऊपरी।
 Shank—पिंडली, डड।
 Shape—आकार, आकृति, रूप।
 Share warrant—शेयर वारन्ट अंशाधि-पत्र।
 Sharp curve—कैची मोड़।
 She-buffalo—भैंस।
 Sheet—चादर, फलक।
 Shelf—आलमारी निधानी।
 Shelter—आश्रय, शरण, रक्षक।
 Shift—पारी, हटाव।
 Shingle—बजरी, शैल-खंड।
 Shipping orders—पोत परिवहन आदेश।

Shirt—कमीज ।	Slip—नरकना ।	Specified below—नीचे दिया गया, निम्न निरदिष्ट ।
Shock—झटका, सदमा, प्रवका ।	Slipper—सर्पक ।	Specify—उल्लिखित करना ।
Shoing—नाल लगाना ।	Slipshod—नापरवाद ।	Speculative reference—परिचयित्व निवेदन ।
Short-draw—थोड़ा थोड़ा निकालना ।	Slope—झाल, उतान ।	Speed—चाल, गति, पति ।
Shorts—नेकर, घुटना ।	Sluice gates—जलद्वार ।	Spelling—लिखने, वर्ण-विन्यास ।
Short-term—अल्पकाल ।	Small Cause Court—अदालत खफीफा, लघुवाद न्यायालय ।	Sphere—गोला ।
Shoulder-badge—स्कंध बिल्ला, कंधे का बिल्ला ।	Small millet—ज्वार बाजरा ।	Spike—खंडा, पील, मेख, नेत्र खंडा ।
Shutters—झिलमिली, कपाट ।	Small Saving Scheme—अल्प बचन योजना ।	Spill way—दुर्लभ मार्ग ।
Sick attendant—रोगियों का परिचर ।	Smooth—चिकना, चिकन, मगूण ।	Spiral—मण्डल ।
Siding—पथिका ।	Smuggling—चौकीमारी, तस्कन व्यापार ।	Spirit—सुरा ।
Sieve—(n.) छलनी, चलनी; (v.) छानना, सूक्ष्म परीक्षा करना ।	Snow—बरफ, हिम ।	Splash—छीटा डालना, चारवा डालना ।
Sieve-test—छलनी परीक्षा ।	Soaring prices—ऊँचे भाव ।	Spleen—प्लीहा, चित्तरी ।
Sign—(v.) हस्ताक्षर करना; (n.) चिन्ह, निशान ।	Social service—समाज सेवा ।	Splenic tissue—प्लीहा तंतु ।
Signature—हस्ताक्षर ।	Socket—कोटर, गर्त ।	Splinter—कमान्नी, टिकन ।
Silt—मल, खाद ।	Soil classifier—भूमि वर्गीकरणक ।	Sport—खेल, शौड़ा ।
Silver chevrons—स्यहने बिल्ले ।	Sole executor—एकमात्र निष्पादक ।	Spray—पुझार ।
Simple Imprisonment—साधारण कारावास, सादी कैद ।	Solicit—याचना करना, अन्यायना करना ।	Spread—फैलना ।
Simplification—सरल करना, सरलीकरण ।	Solid ठोस, घन ।	Spring—चरमा, सोन, सोना ।
Simultaneously—एकसाथ, उमी समय, साथ-साथ, युगपत् ।	Solitary cell—एकांत कोठरी ।	Spring level—स्रोत स्तर ।
Sincerely—सच्चाई या सद्भाव से ।	Solitary confinement—एकांत कारावास या परिरोध ।	Sprinkle—छिड़कना, छीटा देना ।
Single lock—इकहुरा ताला ।	Solution—साधन, हल, समाधान ।	Spur—गुद, डोहर, गेट ।
Sink—(v.) डूबना, डुबाना; (n.) अपवाहिका, हीदी, निष्कान्त ।	Sort—छांटना ।	Squad—दस्ता, टुकड़ी ।
Sire—प्रजनक, पूर्वज, महाराज ।	Space—जगह, अवकाश, आवाग ।	Square root—वर्ग मूल ।
Sir-holder—सौरदार ।	Span—विस्तार, विस्तार ।	Squat—बसने का मार्ग बँटना, अवधि-बतन करना ।
Site—स्थल, स्थान, मौका ।	Spare—फावना, अतिरिक्त ।	Squeeze—(n.) गिनाई; (v.) गिरोना ।
Siteplan—मौके का नक्शा ।	Sparingly—किफायत से ही काम ।	Stabilization—स्थिरकरण ।
Situate—स्थित ।	Speat and spearhead—बन्दनम और माना ।	Stable—(n.) अश्वशाला; (adj.) स्थायी, टकराज ।
Six weeks prior notice—छः सप्ताह पूर्व सूचना ।	Special Armed Constabulary—विशेष नगर रक्षिक ।	Staff—कर्मचारी वर्ग, अम्बल ।
Sizarship—फीसगाफी ।	Special Audit—विशेष लेखापरीक्षा ।	Stage—दरजा, अवस्था, मंच, कक्षा ।
Skeleton—दोँचा, फोसल ।	Specialist—विशेषज्ञ ।	Staircase—सीढा, सीढी, कोशल ।
Skid—किमनना ।	Special Constable—विशेष निरीक्षक, विशेष रक्षी ।	Stallion—घोसारा ।
Skill—कौशल, कुशलता, निपुणता ।	Special Disability Leave—असमर्थता की विशेष छुट्टी ।	Stamp debenture—समाज का पत्र ।
Skilled labour—कुशल श्रम ।	Special messenger—विशेष दूत, विशेष सन्देशक ।	Stamp duty—समाज का मुद्रा शुल्क ।
Skin—पान, त्वचा, त्वक ।	Special reason—विशेष कारण ।	Stamped—मुद्रित, मुद्रा टिक ।
Skirting—घेना ।	Specific—निर्दिष्ट ।	Stamp venditor—समाज विक्रेता ।
Sky light—सोपानदान, शरणा ।	Specific area—निर्दिष्ट क्षेत्र ।	Stand—पंक्ति, पंक्ति, व्यवस्था ।
Slab—जिता, पट्टी, मिन्नी, पटिया ।	Specification—निर्दिष्ट विवरण ।	Standard deviation—सामान्य का मापक मापक ।
Slate—प्लेट ।	Specific performance—सामान्य कारण ।	Standard deviation—सामान्य का मापक मापक ।
Slide—चिसलना ।	Specific Relief Act—निर्दिष्ट विशेष विवरण ।	Standard deviation—सामान्य का मापक मापक ।
Sliding scale—चिसली श्रम ।		Standard deviation—सामान्य का मापक मापक ।
Slight to moderate—थोड़ा-थोड़ा से लेकर मध्यम कमी तक ।		Standard deviation—सामान्य का मापक मापक ।

Statement of expenditure—व्यय विवरण, व्यय विवरण-पत्र ।
 Statement of holdings and rentals—जोत व लगान के प्रकार का व्योरा ।
 Stationed—संस्थापित ।
 Stationery—लेखन-सामग्री, कागज, कलम-दावात ।
 Station officer—बड़े दारोगा, बड़े थानेदार ।
 Statistical table—सांख्यिकीय तालिका ।
 Statistics—सांख्यिकी आँकड़े ।
 Statue—प्रतिमा, मूर्ति ।
 Statutory—कानूनी, वैधानिक ।
 Statute—कानून, अधिनियम ।
 Statutes—लेखवद्ध कानून, व्यवस्थापन ।
 Statutory responsibility—कानूनी जिम्मेदारी, सांविधिक, उत्तरदायित्व ।
 Stay of suit—वाद रोक ।
 Steady trend—स्थिर प्रवृत्ति ।
 Steam—भाप, वाष्प ।
 Stem—तना, डंठल, स्तंभ ।
 Steno-cum Asst. clerk—आशु-लिपिक तथा सहायक क्लर्क ।
 Stenographer—लिपिक, आशु ।
 Step—पद, पदक्षेप, कदम ।
 Step-mother—सौतेली माँ, विमाता ।
 Stereo typed—रूढ़, रूढ़िगत ।
 Sterile—वाँझ, बंध्या, विसंक्रामित ।
 Sterilized—विसंक्रामित ।
 Stimulus—उद्दीपन, उद्दीप्ति ।
 Stipend—वृत्तिका, वजीफा ।
 Stipendiary—वृत्तिक, वृत्तिकाग्राही ।
 Stipendiary students—वृत्तिक विद्यार्थी ।
 Stirrup—रकाव, छल्ला ।
 Stock—सामान, माल, छड़, स्कंध, पशु-घन, वंश ।
 Stock taking—माल जाँचना, माल पड़ताल ।
 Stoppage—ठहरना, विराम, रुकना ।
 Stopping of increment—वेतनवृद्धि रोक देना ।
 Storage—संग्रह, गोदाम, भंडार ।
 Storeman—भांडारिक ।
 Storm—तूफान, झंझावात ।
 Straggle—भटकते फिरना ।
 Straggler—भटकया, भटकते-फिरनेवाला ।
 Strain—तनाव, खिचाव, अतिश्रम ।
 Strap—फीता ।

Stratum—स्तर ।
 Stream gauging observation—प्रवाह-मान-ईक्षण ।
 Stress—प्रतिबल, बलाघात, भार ।
 Stretch—फैलाव ।
 String—डोरी, रस्सी, बंधक ।
 Stripe—घारी ।
 Strong room—सुरक्षित कमरा ।
 Strut—थाम, सहारा, स्तंभ ।
 Stud-bull—सरकारी साँड़ ।
 Stud-ram—बीजाज ।
 Study leave—अध्ययन छुट्टी ।
 Style—ढंग, बनावट, रचना ।
 Sub Divisional officer—हाकिम परगना, उपखंड अधिकारी ।
 Sub-head—उपशीर्षक ।
 Sub-Inspector—उपनिरीक्षक, थानेदार, दारोगा ।
 Subject—विषय, वस्तु, प्रजा ।
 Sub-maxillary—उपजंभ ।
 Submerged area—जलमग्न क्षेत्र, पानी में डूबा हुआ क्षेत्र ।
 Submergence—डूबना ।
 Submitted—पेश या निवेदन किया गया ।
 Subordinate—अधीनस्थ, अधीन, मातहत, निचला ।
 Sub-paragraph—उप कंडिका ।
 Sub-proprietor—उपस्वत्वधारी, उप-स्वामी ।
 Sub-rule—उपनियम ।
 Subscription—चंदा ।
 Sub-section—उपघारा, उपखंड ।
 Sub-settlement—उपव्यवस्था ।
 Subsidiary book—गौण पुस्तक ।
 Subsidiary leave—सहायक छुट्टी ।
 Subsidiary rules—अनुषंगी नियम ।
 Subsidize—आर्थिक सहायता देना, उपदान देना ।
 Subsidy—उपदान ।
 Subsistence allowance—निर्वाह भत्ता ।
 Subsistence grant—गुजारा अनुदान ।
 Sub-soil—नीचे की या निचली मिट्टी ।
 Substantive post—मूल या मौलिक पद ।
 Substitution application—प्रतिस्थापन, प्रार्थना-पत्र ।
 Subtract—घटाना ।
 Sub-tenant—शिकमीदार, शिकमी काश्तकार ।
 Subvert—विध्वंस करना ।

Succession—अनुक्रम, उत्तराधिकारी ।
 Succession Certificate—उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र ।
 Suction—चसण ।
 Sufficient—पर्याप्त, काफी ।
 Sufficiently—पर्याप्त रूप से, काफी तौर पर ।
 Suffix—प्रत्यय ।
 Suit, civil—दीवानी मुकदमा ।
 Sugarcane seed—गन्ने का बीज ।
 Suicidal—आत्महत्यात्मक ।
 Suicide—आत्महत्या, आत्मघात ।
 Suit—वाद, नालिश, दावा, मुकदमा ।
 Suit for guardianship—संरक्षतावाद ।
 Suits Valuation Act—वाद मूल्यन विधान, नालिशों की मालियत का कानून ।
 Summarily—सरसरी तौर पर ।
 Summary decision—सरसरी निर्णय ।
 Summary dismissal—सरसरी पद-च्युति, सरसरी बरखास्तगी ।
 Summary Judgement—सरसरी निर्णय ।
 Summary proceedings—सरसरी कार्यवाही ।
 Summary punishment—सरसरी निर्णय द्वारा दंड ।
 Summer vacation—ग्रीष्मावकाश ।
 Summons—सम्मन, आह्वान-पत्र ।
 Sun-stroke—लू, लू लगना ।
 Superannuation—अधिवर्षता, पचपन-साला, वृद्धावस्था ।
 Superannuation, date of—पचपन साले की तारीख ।
 Superfluous—अतिरिक्त, फालतू ।
 Superintendence—अधीक्षण ।
 Superintendence of ferries—घाटों की देखभाल, घाटों का अधीक्षण ।
 Superintendent of Stamps—स्टाम्प अधीक्षक ।
 Superintendent Printing and Stationery—मुद्रण तथा लेखन-सामग्री अधीक्षक ।
 Superintending—अधीक्षक, अधीक्षण ।
 Superior class convict—उच्च श्रेणी का कदी ।
 Superior classification—उच्च वर्गीकरण ।
 Superior proprietor—मालिक आला, बड़ा मालिक ।

Supplementary—अनुपूरक, पूरक, मपूरक ।
 Supplementary estimate—अनुपूरक तत्वमीना, अनुपूरक प्रायकल्पन ।
 Supply—(n.) रसद, संभरण, प्रदाय; (r.) रसद देना, संभरण करना ।
 Suppress—दबाना, दमन करना ।
 Suppression—दमन, दबाया जाना ।
 Suppurating lesions—मवाद पड़ा हुआ घाव ।
 Suppurative lungs—पूयित फेफड़े, पूयित फुफ्फुस ।
 Surcharge—अविप्रमार, अविप्रमार ।
 Surety—गामिन, प्रतिनू ।
 Surface—सतह, स्तर, पृष्ठ ।
 Surgeon—शल्य-चिकित्सक ।
 Surgical—शल्य-क्रिया विषयक, शल्य शास्त्र-संबंधी ।
 Surname—कुल नाम, अल्ल ।
 Surprise—अचम्भा, आश्चर्य ।
 Surprise visit—आकस्मिक निरीक्षण ।
 Surrender of lease—पट्टे का इस्तीफा, पट्टे का समर्पण ।
 Surveillance—निगरानी ।
 Survey-instruments—पैमाइज के औजार, नूमाप यंत्र ।
 Survey of India—भारतीय नूमाप ।
 Survey and Settlement—पैमाइज और बन्दोबस्त, नूमाप और नू-ज्यवस्था ।
 Surviving—उत्तरजीवी ।
 Suspect—संदेह करना ।
 Suspected—संदिग्ध ।
 Suspense account—उत्पन्न गाता ।
 Suspend—मुअत्तल करना, निर्वन्धित करना ।
 Suspension—मुअत्तली, निर्वन्धन ।
 Suspension of licences—लाइसेन्स की मुअत्तली या निर्वन्धन ।
 Swab—रुट्टे का कौता, फुटेरी ।
 Swamp—ज्वलन ।
 Sway—प्रभुत्व, हुकूमत ।
 Sweep—मेहनत, मंगी, मंगोजक ।
 Sweepings—दूरा-मालगद ।
 Swine—सुअ ।
 Switch—बिजली का यंत्र ।
 Symptom—संज्ञा ।
 Sypion—सिनाज, माइसल ।
 Sympic—सिंधुपरी ।
 Sympic—संज्ञा, सलाही, संज्ञ, संज्ञ ।
 Sympic—संज्ञा, संज्ञा ।

T

T. A. Bill—यात्रिक नत्ते का बिल ।
 Table—टेबुल, मेज, नकशा, मारणी ।
 Table of rates of advalorem fees on institution of suits—वादस्थान पर मूल्यानुसार शुल्क के दरों की मारणी ।
 Tablet—तरती, पत्थर, तापपट्टी, टिकिया ।
 Tabulate—सारणी बद्ध करना, सारणीकरण ।
 Tack—बांधना, जोड़ना, गाँटना ।
 Tact and ability—युक्ति और योग्यता ।
 Tag—नलवी करने का फीता ।
 Tail of canal—नहर का अन्तिम भाग ।
 Taking execution proceedings—जरा की कार्रवाई करना ।
 Tallow—(n.) चरबी, पशुवसा; (r.) चरबी लगाना, चिकना करना ।
 Tenement—घर, मकान का हिस्सा, नवननाग ।
 Tangent—स्पर्शी, स्पर्शरेखा ।
 Tap—टौंटी, पेचतराज, चूड़ी ।
 Tape worms—फीता, कृमि ।
 Tar—अलकतरा, तारकोल ।
 Target—लक्ष्य, निशाना, चाँद ।
 Tariff—शुल्कदर ।
 Tarpaulin—तिरपाल ।
 Task—काम, कार्य ।
 Tax—कर, टैक्स ।
 Taxing Judge—करनिर्वाहक जज ।
 Teacher—अध्यापक ।
 Teaching staff—अध्यापक वर्ग ।
 Tearsmoke squad—अधुपुम टुकड़ी ।
 Technical—प्रविष्टित, (as technical) औद्योगिक, शिल्पी, शिल्पीय, तकनीकी, पारिभाषिक ।
 Technical assistant—तकनीकी सहायक ।
 Technical branch—तकनीकी शाखा ।
 Technical duties—तकनीकी कर्तव्य ।
 Technical Inspector—टेकनिकल इंस्पेक्टर, तकनीकी निरीक्षक ।
 Technical reason—प्रविष्टित कारण ।
 Technical sanction—प्रविष्टित मति-कृति, बाधकता मंजूरी ।
 Technique—प्रतिधि, कला ।
 Telegram—तार ।
 Telegraph office—तारघर ।
 Telegraph—तार ।
 Telescope—दूरदर्शक, दूरदर्शक यंत्र ।

Temper—पानी चलाना ।
 Temperature—तापमान, ताप ।
 Tempered—दृढ़ीकृत ।
 Temporarily—अस्थायी रूप से ।
 Temporary—अस्थायी ।
 Temporary acquisition of land—भूमि की अस्थायी प्राप्ति ।
 Temporary appointment—अस्थायी नियुक्ति ।
 Temporary candidate—अस्थायी उम्मीदवार ।
 Temporary establishment—अस्थायी संस्थापना ।
 Temporary outlet—अस्थायी निर्यात, अस्थायी नावी ।
 Tenancy—रकबा खानगी, भूमिसम्पत्, कान्तकारी, किरायेदार ।
 Tenant—अस्थायी, किरायेदार, कान्तकार ।
 Tenant-at-will—कच्चा कान्तकार, कच्चा अस्थायी ।
 Tenant-in-chief—अस्थायी कान्तकार ।
 Tender—टेंडर, निविदा ।
 Tender form rates—निविदा फार्मरेट ।
 Tensile—तन्व्य ।
 Tension—तनाव, तनन, प्रयाग ।
 Tent—तन्ड ।
 Tenure in perpetuity—पट्टा इत्य-भारती ।
 Tenure in reversion—पट्टीदारी ।
 Tenure of post—पर की अस्थाप ।
 Tenure post—अस्थायित पर ।
 Term—कालखान, कालीय, नियत, रक ।
 Terminal—अंत का, अन्तिम, परम, आखिरी ।
 Terminal charge—रक ।
 Terminal Examination—अन्तिम परीक्षा ।
 Terminal Report—अन्तिम रिपोर्ट ।
 Term in law—कालखान ।
 Terminal—अन्तिम का, अन्तिम परम ।
 Term of office—कालखान—अस्थायी का कालखान ।
 Term of contract—अस्थायी का कालखान ।
 Term of service—अस्थायी का कालखान ।
 Term of office—अस्थायी का कालखान ।
 Term of office—अस्थायी का कालखान ।
 Term of office—अस्थायी का कालखान ।

Testamentary—इच्छापत्र-सम्बन्धी, वसीयती ।

Testator—इच्छापत्रकर्ता ।

Tested entries—जंचे हुए इन्दराज ।

Tetanus—घनुवति, घनुस्तंभ ।

Text book—पाठ्यपुस्तक ।

Thatch—(n.) छप्पर; (v.) छप्पर छाना ।

Theatre—रंगशाला ।

Theft—चोरी, चौर्य ।

Theodolite—थियोडोलाइट, पैमाइश में प्रयुक्त दूरबीन विशेष ।

Theodolite Survey—थियोडोलाइट सर्वेक्षण ।

Theorem—प्रमेय ।

Theoretically—सिद्धांततः, सैद्धांतिक रूप से ।

Theory—सिद्धांत, उपपत्ति, वाद, मत ।

Thermometer—थर्मामीटर, तापमापी ।

Thorax—वक्ष ।

Through proper channel—उचित माध्यम से ।

Through traffic—सीधा परियात ।

Thumb-impression—अँगूठा निशान, अंगुष्ठ चिह्न ।

Ticket—टिकट ।

Tick—किलनी ।

Tile—खपरेल ।

Timber—इमारती लकड़ी ।

Time barred—कालबाधित ।

Time-keeper—समयपाल ।

Time scale—समय-मान ।

Time-scale of pay—वेतन का समय-मान ।

Time-table—समय-सारणी ।

Tissue—ऊतक, जालीदार कपड़ा ।

Title—उपाधि, खिताब, नाम, शीर्षक ।

Title deeds—आगम-पत्र ।

Title holder—उपाधिवान, उपाधिचारी ।

Title to leave—छुट्टी का अधिकार ।

To—को, सेवा में ।

Today—आज ।

Toe wall—रोक दीवार ।

Ton—टन ।

Tonnage—टन भार, टन मान ।

Tools and plants—उपकरण और स्थिर-यंत्र ।

Top—चोटी, शिखर, ऊपर का सिरा ।

Topic—प्रकरण ।

Topographical map—स्थलरूपरेखीय मानचित्र ।

Topography—स्थलाकृति विज्ञान ।

Torch—टाँच, चोरवत्ती ।

Torrent—तीव्र धारा, तेज धारा ।

Torsion—मरोड़, ऐंठन ।

Total—(n.) जोड़, योग, कुल जोड़; (adj.) कुल, संपूर्ण ।

Total emolument—संपूर्ण परिलाम ।

Totalling Register—योगपंजी ।

Tour—दौरा ।

Tour allowance—दौरे का भत्ता ।

Tour Contingent Bill—दौरा प्रासंगिक बिल ।

Tour Programme—दौरे का कार्यक्रम ।

Town Improvement Trust—नगर विकास प्रन्यास ।

Tracer—अनुरेखक ।

Tracing—अनुरेखण ।

Tract—क्षेत्र, प्रदेश, भू-भाग ।

Traction—खींचना, कर्षण ।

Trade Mark—व्यापार, चिह्न, मार्का ।

Tradition—परम्परा ।

Traditional—पारम्परिक ।

Traffic—पणन, व्यापार, यातायात ।

Traffic census—यातायात संबंधी गणना ।

Traffic Inspector—यातायात निरीक्षक ।

Traffic in women and children—औरतों और बच्चों को बेचने का अपराध ।

Traffic Police—ट्राफिक पुलिस, चौराहा पुलिस ।

Trailor—ट्रेलर, अनुयान ।

Train—ट्रेन, रेलगाड़ी ।

Trained—प्रशिक्षित ।

Training—प्रशिक्षण ।

Training College—प्रशिक्षण विद्यालय ।

Training institution—प्रशिक्षण संस्था ।

Transaction—व्यवहार, लेना-देना, लेन-देन, सौदा ।

Transcription—प्रतिलेखन, लिप्यंतर ।

Transfer—वदली, स्थानांतरण, संक्रामण, अंतरण ।

Transfer charges—हस्तांतरण व्यय ।

Transfer debit (or credit)—नाम या जमा में अंतरण ।

Transfer, duty of—हस्तांतरण शुल्क ।

Transferee—संक्राती, हस्तांतरी ।

Transfer of charge—कार्यभार हस्तांतरण ।

Transfer of control—नियंत्रण हस्तांतरण ।

Transfer of lease—पट्टे का हस्तांतरण ।

Transfer of Property Act, 1882—सम्पत्ति हस्तांतरण ऐक्ट १८८२ ।

Transfer of rights—स्वत्वों का हस्तांतरण ।

Transferor—हस्तांतरक, हस्तांतरणकारी ।

Transfer of shares—शेयर का हस्तांतरण, अंश हस्तांतरण ।

Transfer of site—आस्थान परिवर्तन, मौका बदलना ।

Transfer statement—नकशा इंतकाल, स्थानांतरण विवरण ।

Transformation—रूपांतर, रूपांतरण ।

Transformer—परिवर्तक ।

Transshipment—नौकांतरण ।

Transit charge—परिवहन प्रभार ।

Transition curve—संक्रामी वक्र ।

Transit loss—परिवहन हानि ।

Transitory—क्षणिक, अस्थायी ।

Translation—अनुवाद, भाषांतर ।

Transmission—पारेषण, पारगमन, संचरण, संचारण ।

Transmit—भजना, पारेषण करना ।

Transmitted—पारेषित, संचारित ।

Transpire—घटित होना ।

Transplantation—रोपाई करना, आरोपण, प्रतिरोपण ।

Transplanted rice—रोपा हुआ धान ।

Transport—वहन, परिवहन ।

Transverse—अनुप्रस्थ, आड़ा ।

Trapezium—समलम्ब, चतुर्भुज ।

Trapezoid—समलंबास चतुर्भुज ।

Travel Agent—यात्रा एजेंट या अभिकर्ता ।

Travelling allowance rules—यात्रिक भत्ते के नियम ।

Treasurer—कोषाध्यक्ष ।

Treasure vault—खजाने का तहखाना ।

Treasury—खजाना, कोषागार ।

Treasury Bills—राजकोष पत्र ।

Treasury officer—हाकिम खजाना, कोषागार अधिकारी ।

Treatment—व्यवहार, बरताव, इलाज, उपचार, प्रतिपादन ।

Tremor—कंप, प्रकंप ।

Trench—खाई ।

Trespasser—अतिचारी ।

Trial—विचार, विचारण, परीक्षण ।

Triangular—त्रिकोणी, त्रिभुजाकार ।

Tribunal—न्यायाधिकरण, अधिकरण।
 Triplicate—तिहरा, तृतीयक, तीन प्रतियां करना।
 Tripod—त्रिपाद, तिपाई।
 Trolley—ट्राली, ठेला।
 Trousers—पतलून।
 True copy—सही प्रतिलिपि, पक्की नकल।
 Trumpeter—तुरमची।
 Trust—न्यास, ट्रस्ट।
 Trust, declaration of—न्यास-घोषणा।
 Trustee—न्यासी, न्यासघारी, ट्रस्टी।
 Turst endowment—न्यास धर्मादा।
 Trust property—न्यास सम्पत्ति।
 Tube—नली, नल।
 Tuberculin Test—यक्ष्मा परीक्षा।
 Tuberculosis—क्षयरोग, तपेदिक।
 Tube well operators—नलकूप चालक।
 Tube wells—नलकूप।
 Tumour—अबुद, इल्ला।
 Tunic—कुरती, कंचुक।
 Tunnel—सुरंग।
 Turner—टर्नर, खरादी।
 Turner-welder—खरादी झलाईगर।
 Turnover—कुल विक्री।
 Tutition fee—पढ़ाई की फीस।
 Tutorial—शिक्षा संबंधी।
 Type writers—टाइपराइटर, टंकण यंत्र।
 Typist—टाइपिस्ट, टंकक।

U

Ugly—अशोभनीय, भद्दा।
 Ultra vires—अधिकार के बाहर, शक्ति बाह्य।
 Unauthorized—अनधिकृत।
 Unavoidable circumstances—अपरिहार्य स्थिति।
 Uncertified film—अप्रमाणित फिल्म।
 Unclaimed—अस्वामिक, अदावी।
 Unclaimed articles—अदावी वस्तुएँ। लावारसी सामान।
 Unclaimed documents—वेदावा या अदावी दस्तावेज, अस्वामिक लेख्यपत्र।
 Unclassified—अवर्गीकृत, अवर्गित।
 Unclassified item—अवर्गीकृत मद।
 Uncultivated land—अकृष्ट भूमि।
 Uncurrent coin—अप्रचलित मुद्रा, अप्रचलित सिक्का।
 Under—के अधीन, के अनुसार।
 Under cover of—की ओट में, के आड़ में।
 Undergo—सहना, भुगतना।

Under proprietor—उपस्वामी, उपस्वत्वधारी।
 Under Secretary—अवरसचिव।
 Under Section—धारा के अधीन।
 Undersigned—अधोहस्ताक्षरक।
 Undertaking—उपक्रम, वचन, प्रतिश्रुति, वचनबद्ध होना।
 Under the auspices of—के तत्वावधान में।
 Under the guardianship of—की संरक्षता में।
 Under trial—विचाराधीन।
 Under-trial prisoner—विचाराधीन बन्दी।
 Undue—अनुचित।
 Unequivocal—स्पष्ट, संदेहरहित।
 Unexpired—असमाप्त।
 Unfunded debt—अनिधिक ऋण।
 Unhealthiness—अस्वास्थ्य।
 Unification—एकीकरण।
 Uniform—(n.) वर्दी; (adj.) एकसम, समरूप, समांग, समान।
 Uniform allowance—वर्दी भत्ता।
 Uniformity—एकरूपता, समरूपता।
 Uniform Procedure—समान कार्य-विधि, एकसार विधि।
 Unimportant—महत्त्वहीन।
 Union—संघ।
 Union fee—संघ शुल्क या चंदा।
 Unirrigated—न सोंचा गया, बारानी, खाकी।
 Unit—एकक, इकाई, मात्रक, दल, एकांश।
 Universal—सार्विक, सार्वत्रिक।
 University—विश्वविद्यालय।
 University Grants Committee—विश्वविद्यालय अनुदान समिति।
 Unlawful Assembly—अवैध या विधिविरुद्ध समुदाय, गर काननी जमाअत।
 Unlocking—ताला खोलना।
 Unmetalled Road—कच्ची सड़क।
 Unnatural—अस्वामाविक, अप्राकृतिक।
 Unnatural offence—अप्राकृतिक अपराध।
 Un-official—अनधिकारिक, गैरसरकारी।
 Un-official body—अनधिकारिक संस्था।
 Un-official Register—अनधिकारिक पंजी।
 Unpaid apprentices—अवैतनिक प्रशिक्षु।
 Unpalatable—अस्वादित।
 Unproductive works—अनुत्पादक

निर्माणकार्य।
 Unrecorded cases—अलिखित या अलेख्य मामले।
 Unregistered—वे-रजिस्टरी।
 Unregistered memo—अपंजीकृत स्मृति पत्र।
 Unrestricted power—बेरोक अधिकार।
 Unserviceable—निकम्मा, ब्रेकाम, नाकारा-
 Unskilled—अकुशल।
 Unsound—अस्वस्थ, रोगी, विकृतचित्त।
 Unsurveyed areas—अमापित क्षेत्र, गैर-पैमायशी क्षेत्र।
 Untested candidate—असूचीगत उम्मीदवार।
 Unused loose revenue stamps—अप्रयुक्त अवद्ध माल के टिकट।
 Unusual occurrence—असाधारण घटना।
 Unwholesome—अस्वास्थ्यकर।
 Upper Grade Clerk—उच्च श्रेणी लिपिक।
 Upper Subordinate Service (Supervisor)—उच्च अधीनस्थ सेवा (पर्यवेक्षक)।
 Upstream—वहाव के ऊपर।
 Up-to-date—आज तक का, अद्यतन।
 Urban—शहरी, नागरिक, नागर।
 Urban outpost—नगर चौकी।
 Urgency—अविलंबिता।
 Urgent—तुरंत, शीघ्र।
 Urgent copy—जरूरी प्रतिलिपि।
 Urgent slip—अत्यावश्यक पर्ची।
 Urinal—पेशाबघर, मूत्रकुंड, मूत्रालय।
 Urine—मूत्र, पेशाब।
 Use—प्रयोग।
 Usual—साधारण, सामान्य।
 Usufructuary Mortgage—भोग बंधक
 Utilization—उपयोग।
 Utilize—काम में लाना।

V

Vacancy—रिक्तस्थान, रिक्तता, रिक्ति, खाली जगह।
 Vacation—दीर्घविकाश।
 Vacation Department—अवकाश विभाग।
 Vaccine—टीका, टीके की दवा।
 Vaccinal lymph—बैक्सीन लसीका।
 Vaccination—टीका।
 Vacuum—रिक्तता, शून्यता, निर्वात।

Vagrancy—आवारागर्दी ।
 Vagrant—आवारा ।
 Vague—अस्पष्ट, अनिश्चित ।
 Vagueness—अस्पष्टता, अनिश्चितता ।
 Valid—वैध, मान्य ।
 Validate—वैध या कानूनी बनाना ।
 Validity—वैधता, मान्यता ।
 Validity of certificate or endorsement—प्रमाणपत्र या पृष्ठलेख की वैधता या मान्यता ।
 Valley rafter—घाटी कड़ी ।
 Valuable—मूल्यवान ।
 Valuation—मूल्यन, मूल्यांकन ।
 Valuation Act—मूल्यन विधान ।
 Valuation for duty—चुंगी या शुल्क के लिये मूल्यन ।
 Value—मूल्य, मान, मूल्यन ।
 Valve—कपाट, पुट ।
 Van—यान ।
 Vapour—भाप, वाष्प ।
 Variation—परिवर्तन, घट-बढ़, उतार-चढ़ाव, विभिन्नता, विविधता ।
 Various—विविध, विभिन्न ।
 Varnish—चमकदार रोगन, वार्निश ।
 Vault—तहखाना ।
 Vehicle—गाड़ी, सवारी, यान, वाहक ।
 Velocity—वेग, गति ।
 Venetian blind—झिलमिली ।
 Ventilate—संवातित करना ।
 Ventilation—संवातन ।
 Ventricle—निलय ।
 Verandah—बरामदा, दालान ।
 Verbal—मौखिक, शाब्दिक ।
 Verbally—जवानी, मौखिक रूप से ।
 Verification—सत्यापन जाँच ।
 Verification of account—लेखा जाँच ।
 Verification of stock—संचयकी जाँच ।
 Verified—जाँचा हुआ, सत्यापित ।
 Versus—बनाम, विरुद्ध ।
 Vertex—शीर्ष, मूर्धा ।
 Vertical—उदग्र, खड़ा, ऊर्ध्वाधर ।
 Vest—निहित होना ।
 Vested—निहित ।
 Vestibule—ड्योढ़ी, द्वार-प्रकोष्ठ, अंतराल ।
 Veteran—अखाड़िया, ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, पक्का अनुभवी ।
 Veterinary—पशु-चिकित्सा ।
 Veterinary Surgeon—पशु चिकित्सा सर्जन ।

Veterinary Service—पशु-चिकित्सा सेवा ।
 Veto—रोधाधिकार, निषेधाधिकार ।
 Vexation—उत्पीड़न, संतापन ।
 Via—से होकर, बराह ।
 Viaduct—पुल ।
 Vibration—कम्पन ।
 Vice—उप ।
 Vice-chancellor—उप कुलपति ।
 Viceroy—बाइसराय, बड़े लाट ।
 Vice versa—विलोमतः ।
 Vicinity—सामीप्य ।
 Vide—देखिये ।
 Vigil—जागरण, रतजगा, सतर्कता ।
 Vigilance—चौकसी, सतर्कता, जागरण ।
 Village—ग्राम ।
 Village Chaukidar—ग्राम का चौकीदार ।
 Village Defence Societies—ग्राम रक्षा समितियाँ ।
 Village headman—मुखिया ।
 Violate—अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना ।
 Violation of duties—कर्तव्य का उल्लंघन ।
 Violation of rules—नियमों का उल्लंघन ।
 Violence—हिंसा ।
 Violent—हिंसात्मक, हिंस्र, प्रचंड ।
 Virulent—अति उग्र, प्रचंड, विषैला ।
 Virus—विषाणु ।
 Visu—प्रवेशपत्र ।
 Viscera—अभ्यंतरांग, अंतर्ङियाँ ।
 Viscosity—श्यानता ।
 Vision—दृष्टि, निगाह ।
 Visit—निरीक्षण, मुलाकात, भेंट ।
 Visitation—भेंट, निरीक्षण ।
 Visitor—मुलाकाती, दर्शक ।
 Visitors book—निरीक्षण पुस्तक ।
 Visual Signalling Section—दृष्टिक संकेत उपविभाग ।
 Vitiate—विदूषित या निष्फल करना ।
 Viva voce—मौखिक परीक्षा ।
 Vocation—व्यवसाय, वृत्ति, काम-धंधा ।
 Vocational—व्यावसायिक, काम-धंधा सम्बन्धी ।
 Vocational staff—व्यावसायिक कर्म-चारीवर्ग ।
 Void—शून्य, हीन, प्रभावहीन ।
 Voidable—शून्यकरणीय, हीनकरणीय ।
 Volatile—वाष्पशील ।

Volley—बौछार ।
 Voltage—वोल्टता, विद्युत दाव ।
 Volume—परिमाण, आयतन ।
 Volume of water—पानी का परिमाण ।
 Voluntary contribution—ऐच्छिक या स्वैच्छिक चंदा ।
 Voter—मतदाता ।
 Vouch—दायी होना, साक्ष्य देना ।
 Voyage—जलयान, समुद्र-यात्रा ।
 Vulgur fraction—साधारण भिन्न ।
 Vulnerable—भेद्य ।

W

Wage—मजदूरी, मजूरी ।
 Wage earner—श्रमजीवी, मजदूर ।
 Wage-earning Scheme—मजूरी-अर्जन योजना ।
 Wagon—डिब्बा, मालडिब्बा ।
 Waist—कमर, कटि ।
 Waistcoat—बंडी, वासकट ।
 Waiving of recovery—घसुली छोड़ देना ।
 Walking stick gun—बन्दूकदार छड़ी ।
 War concession leave—युद्ध अनुग्रह छुट्टी ।
 War-costs Surcharge—युद्धकालीन अधिभार ।
 Ward—कक्ष, रोगीकक्ष ।
 Wardrobe—तोशाखाना, वस्त्रागार, कपड़ों की आलमारी ।
 Warehouse—गोदाम, मालगोदाम ।
 Warehousing of arms—हथियारों को मालघर में रखना ।
 Warn—चेतावनी देना ।
 Warning—चेतावनी ।
 Warning, formal—बाजाबत्ता चेतावनी, औपचारिक चेतावनी ।
 Warp—ताना, तानी, लकड़ी का मुड़ना ।
 Warrant for goods—माल अधिपत्र ।
 Warrant of arrest—आसेध अधिपत्र, गिरफ्तारी का वारंट ।
 Warrant of commitment—सुपुर्दगी का अधिपत्र ।
 Warrant officer—वारंट अधिकारी, अधिपत्र अधिकारी ।
 Warrant of precedence—पूर्वता अधिपत्र ।
 Wastage—अतिक्षय, बरबादी, खोजन ।
 Wastage of water—पानी की बरबादी ।
 Waste—(v.) बरबाद करना, अपव्यय,

उच्छिष्ट, क्षय, नाश ।
 Wasteland—वंजर ।
 Watch—निगाह रखना, पहरा देना ।
 Watch and ward (Police)—पहरा और निगरानी पुलिस ।
 Watchman—पहरेदार, प्रहरी ।
 Water bottle—पानी की बोटल ।
 Water carrier—मिश्ती, पानी ढोने वाला ।
 Water closet—शौचघर ।
 Water course—नाला, जलमार्ग ।
 Water logged area—जल-लग्न क्षेत्र ।
 Water-logged land—जल-लग्न भूमि ।
 Water-marked paper—जल चिह्न कागज ।
 Water power—जलशक्ति ।
 Waterproof—बरसाती, जलामेघ ।
 Water raising—पानी उठाना ।
 Water rate—जल-शुल्क ।
 Water Regulation Establishment—जलव्यवस्था संस्थापना ।
 Waterways—जलमार्ग, प्रवाह, नहर ।
 Wavy—लहरदार, तरंगित ।
 Wax—मोम ।
 Ways and means estimate—उपाय और साधन-सम्बन्धी तखमीना ।
 Weapon—आयुध, शस्त्र, हथियार ।
 Wear & tear—टूट-फूट ।
 Weather Report—मौसम का हाल ।
 Wedge—फ़नी, पच्चड़ ।
 Weeding—निराई, निराना ।
 Weeding of Records—कागजात की छंटनी ।
 Weeding lable—निराई चिप्पी ।
 Weeding list—निराई सूची ।
 Weeding slip—छेँटाई पर्ची, निराई पर्ची ।
 Weed out—(v.) निकालना, खारिज करना, दूर करना ।
 Weekly list—साप्ताहिक सूची ।
 Weeviling—घुन लगना ।
 Weigh—तौलना ।
 Weighment—तौला ।
 Weir—बाँध, बन्ध, उदोव ।
 Weld—जलाई करना, जालना ।
 Welder—जलाईगर, संवाता ।
 Welding—जलाई ।
 Welfare centre—कल्याण केन्द्र ।
 Well-boring—कूप-बेचन, कुएँ की दोरिंग ।
 Well in time—काफी पहले ।
 Wharf—पक्का घाट ।
 Whereas—चूँकि, जबकि ।

Whipping—कोड़े मारना, कोड़े लगाना ।
 Whistle—सीटी ।
 White chevron—सफेद विल्ला ।
 White vest—सफेद वासकट ।
 Whole—सब, पूर्ण, सम्पूर्ण, सारा ।
 Whole period—सम्पूर्ण अवधि ।
 Wholesale price—थोक भाव ।
 Wholesome—स्वास्थ्यकर ।
 Wholly—पूर्णतया, पूर्णतः, पूरे तौर से ।
 Wilful absence from duty—ज्ञान-वृझकर काम से गैरहाजिर या अनुपस्थित होना ।
 Will—वसीयत, इच्छा-पत्र ।
 Wind—हवा, पवन, वायु ।
 Winder—घुमावदार पैड़ी ।
 Winding up—समेटना, समापन ।
 Wing—पक्ष, पाख, वाजू, पंख, पर ।
 Wireless operator—वायरलेस आपरेटर, वेतार प्रचालक ।
 Wireless Telegraphy Section—वेतार प्रेषण उपविभाग ।
 Wireman—तार मिस्त्री ।
 Withdrawal—परावर्तन, रूपया निकालना ।
 Withdrawal and repayment—रूपये निकालना और भुगतान ।
 Withhold—रोक रखना ।
 Withholding on efficiency bar—दक्षता अर्गल पर रोक लगाना ।
 Without fail—निश्चित रूप से ।
 Without prejudice—बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले ।
 With reference to—के संबंध या प्रसंग में ।
 With retrospective effect—पूर्व व्याप्ति सहित ।
 Witness—साक्षी, गवाही ।
 Women Police—महिला पुलिस ।
 Wordy—जव्दाडम्बरमय ।
 Work Accounts—निर्माण-कार्य लेखा ।
 Work-charged—निर्माण-प्रभारित ।
 Working agreement—काम करने का इकरारनामा ।
 Working Committee—कार्यकारिणी-समिति ।
 Working dress—दफ्तरी पोशाक, कार्यालय वेज ।
 Working day—काम के दिन, कार्य-दिवस ।
 Working plan—कार्य-आयोजना ।

Workman—कामगर, कारीगर, मजदूर ।
 Work memo—निर्माण-कार्य स्मृति पत्र ।
 Work-orders—निर्माण कार्यदेश ।
 Works—निर्माण, निर्माण शाला ।
 Works abstract—निर्माण कार्यों का गोजवारा, निर्माणसार ।
 Works accounts—निर्माण लेखा ।
 Works expenditure—निर्माण कार्यों पर व्यय, निर्माण व्यय ।
 Works outlay—निर्माण कार्य पर लागत ।
 Workshop—कारखाना, कर्मशाला ।
 Wrench—रिच, मरोड़ ।
 Write—आदेश, लेख ।
 Write off—बूटखाते लिखना ।
 Write off losses—हानि की रकमों को बूटखाते डालना ।
 Writing—लेखन, लेख, लिखावट ।
 Written authority—लिखित प्राधिकार ।
 Written examination of complaints—शिकायतों की लिखित जांच ।
 Written instrument—लिखित दस्तावेज, करण-पत्र ।
 Written Statement—तहरीरी बयान, प्रतिवाद-पत्र, लिखित बयान ।

Y

Yield—(r.) झुकना, हार मानना; (n.) उपज, उत्पाद, पैदावार ।
 Youngmen's Christian Association—नवयुवक ईसाई संघ ।
 Yours faithfully—भवविश्रुत ।

Z

Zenith—उपमध्य, गन्धर्वान्तरिक्ष, शिरोविन्दु ।
 Zero—शून्य ।
 Zero hour—अभियान-वेना ।
 Zig-zag—टेढ़ा-मेढ़ा ।
 Zinc—जस्ता ।
 Zodiac—राशिचक्र ।
 Zodiac, sign of—राशि ।
 Zonal—कटिबंधीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, मंडलीय ।
 Zone—कटिबंध, क्षेत्र, मंड, प्रदेश ।
 Zone, arctic—उत्तर-ध्रुवीय कटिबंध ।
 Zone, antarctic—दक्षिण-ध्रुवीय कटिबंध ।
 Zoogeography—प्राणि भूगोल ।
 Zoologist—प्राणि वैज्ञानिक ।
 Zoology—प्राणि-विज्ञान ।

Technical and Scientific Glossary

प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शब्दावली

A

Abacus—गिनतारा
 Abandonment—परित्याग
 Abate—कमी करना, न्यून करना, हटाना, शांत करना
 Abatement—घटाव, न्यूनीकरण, शमन, निराकरण
 Abaxial—अपाक्ष
 Abbreviation—संक्षेप
 Abdomen—उदर
 Abdominal—उदरीय, उदरी
 Abdominal air-sack—उदरीय वायु-कोश
 Abduction—अपवर्तन, अपहरण
 Abductor—अपवर्तनी
 Aberrant—विपथी
 Aberration—विपथन
 Abet—दुरुस्साहित करना
 Abetment—दुरुस्साहन
 Abinitio—आदितः, आरंभतः
 Abiogenesis—अजीवात् जीवोत्पत्ति, अजीव-प्रजनन
 Abiogeny—अजीवात् जीवोत्पत्ति, अजीव-प्रजनन
 Abjection—अपक्षेप
 Ablation—अपक्षरण
 Abnormal—अपसामान्य
 Abnormality—अपसामान्यता
 Abolition—समाप्ति, उन्मूलन
 Aboral—अपमुख
 Aboriginal—आदिवासी
 Abortion—वृद्धि रोध, गर्भपात
 Abortive—रुद्धवृद्धि, गर्भपातिक
 Abrasion—अपघर्षण
 Abrasive—अपघर्षी
 Abridged—संक्षिप्त
 Abscised—विलगित
 Abscissa—सुज
 Abscission—विलगन
 Absciss—विलग
 Abscond—भाग जाना, फरार होना
 Absolule—निरपेक्ष, परम, पूर्ण, अवाधित

Absolute error—निरपेक्ष त्रुटि
 Absolute motion—निरपेक्ष गति
 Absolute temperature—परम ताप
 Absolute zero—परम शून्य
 Absorb—अवशोषण करना
 Absorbance—अवशोषणांक
 Absorbed—अवशोषित
 Absorptiometer—अवशोषणमापी
 Absorption—अवशोषण
 Absorptive—अवशोषी
 Absorptivity—अवशोषणक्षमता, अवशोषण, अवशोषकता
 Abstract (*adj.*) अमूर्त; (*n.*) सारांश
 Abstraction—अपहरण, अपाकुंचन
 Abundance—बाहुल्य
 Abundant—बहुल
 Abysmal—वितलीय
 Abyss—वितल
 Abyssal—वितली, वितल
 Abyssinian—ऐविसिनी
 Academy—विद्या, विद्वत् या शिक्षा-परिषद्
 Acantha—कंट
 Acarpelous, Acarpellous—अनंडपी
 Acarpous—अफलद
 Acaulescent—अस्तंभी
 Accelerate—त्वरित करना
 Accelerated—त्वरित
 Acceleration—त्वरण
 Accelerative—त्वरक
 Acceleratory—त्वरमान
 Acceptance—अंगीकार, अंगीकृति, स्वीकार, स्वीकृति, ग्रहण
 Acceptor—ग्राही, स्वीकारी
 Access—अभिगम्यता, पहुँच, प्रवेश
 Accessory (*adj.* & *n.*)—अतिरिक्त, सहायक या गौण (वस्तु)
 Accident—दुर्घटना
 Accidental—आकस्मिक, संयोगी
 Acclimatization—पारिस्थितिक अनुकूलन

Account—लेखा, हिसाब, गणना
 Accountant—लेखापाल
 Accountant General—महालेखापाल
 Accrete—सहवर्धित
 Accretion—अभिवृद्धि
 Accumbent—प्रतिस्थित
 Accumulated—संचित
 Accumulation—संचय, संचयन
 Accumulator—संचायक
 Accuracy—यथार्थता
 Accurate—यथार्थ
 Accusation—अभियोग, दोषारोपण
 Accused—अभियुक्त, मुलजिम
 Accutrous—अमूल कशेरुक
 Acephalous—अशीर्षी
 Acerose, Acerous—सूच्याकार
 Achlamydeous—अपरिदली
 Achlamydy—अपरिदलिता
 Achoric, Achromatic, Achromous, Achroous—अरंज्य
 Achromat—अवर्णक, अरंजक
 Achromatisation—अवर्णीकरण
 Achromatism—अवर्णता
 Acicular—सूच्याकार
 Acid (*n.*)—अम्ल, तेजाव, एसिड, (*adj.*)—अम्लीय
 Acid salt—अम्लीय लवण
 Acidic—अम्लीय, आम्ल
 Acidification—अम्लीकरण
 Acidify—अम्लीय या आम्ल करना
 Acidimeter—अम्लमापी
 Acidimetry—अम्लमिति
 Acidity—अम्लता
 Acidulate—आम्ल करना
 Acidulated—अम्लीकृत
 Acinus—गुच्छकोष्ठक
 Acknowledgement—प्राप्ति, स्वीकार, स्वीकृति, स्वीकरण
 Acline—अनत
 Aclinic—अनत
 Acneform—पिटिकाकार
 Acoelous—आगुहिक

Acoustic—ध्वनिक, श्रवण-, ध्वनि-
 Acoustical—ध्वनिक
 Acoustic centre—श्रवण-केंद्र
 Acoustic energy—ध्वनिकऊर्जा
 Acoustic radiation—ध्वनि-विकिरण
 Acoustics—ध्वानिकी, ध्वनि-विज्ञान
 Acoustimeter—ध्वनिमापी
 Acquired—उपाजित
 Acre—एकड़
 Acreage—क्षेत्रफल, रकवा
 Acrid—उग्र, तीक्ष्ण
 Acrocarpic—अक्षांतफली
 Acrocarpous—अक्षांतफली
 Acrocout, Acrocoutous—अग्ररोमी
 Acrodout—अग्रदंती
 Acrogenous—अग्रवर्धी
 Acrogynous—अग्रजायांगी
 Acrogyny—अग्रजायांगिता
 Acromegaly—अग्रतिकायता
 Acromian—असंकट
 Acropetal—अग्रामिसारी
 Acropleurogenous—अग्रपार्श्वजनित
 Acropynchous—अग्रतुंडी
 Acroscopic—अग्रोन्मुख
 Acrospore—अग्रबीजाणु
 Act—क्रिया करना
 Actinal—मुखदिशी
 Actinic—क्रियाशील
 Acting—कार्यवाह
 Action—क्रिया, कर्म
 Activate—सक्रिय या उत्तेजित करना
 Activated—सक्रियित, उत्तेजित
 Activation—सक्रियण
 Activator—सक्रियकारक
 Active—सक्रिय, क्रियाशील
 Activity—सक्रियता
 Actual—वास्तविक
 Actuarial Science—बीमा-विज्ञान
 Actuary—बीमा-विज्ञ
 Actuate—चालू करना, प्रवृत्त करना
 Actuating—प्रवर्तक
 Aculeolate—सशूल
 Aculeus—सशूल
 Acute (*Bot.*)—निशिताग्र
 (*Geom.*) न्यून
 Acyclic—अचक्रीय
 Adamantine—हीरकसम
 Adaptable—अनुकूलनशील
 Adaptability—अनुकूलनशीलता
 Adaptation—अनुकूलन

Adaptive—अनुकूली
 Adaxial—अभ्यक्ष
 Add—योग करना, जोड़ना
 Addend—योज्य
 Addition (*n.*)—योग, जोड़;
 (*adj.*) योगात्मक
 Additional—योज्य, अतिरिक्त
 Additive—योगज, योज्य, योजित
 Adductor—अभिवर्तनी
 Adherent—आसंजित
 Adhesion—आसंजन
 Adhesive—आसंजनशील, आसंजक
 Ad hoc—एतदर्थ
 Adiabatic—रूद्धोष्म
 Ad infinitum—यावदंत, अनंत वार,
 अनंततः
 Adjacent—संलग्न, निकटवर्ती, आसन्न
 Adjoint—सहखंडज
 Adjudication—न्यायिक निर्णय
 Adjust—समायोजन करना
 Adjustable—समायोज्य
 Adjusted—समायोजित
 Adjustment—समायोजन
 Administration—प्रशासन
 Administrative—प्रशासी
 Administrator—प्रशासक
 Admissibility—ग्राह्यता, मान्यता
 Admissible—ग्राह्य, मान्य
 Admittance—प्रवेश्यता
 Admixture—अविमिश्रण
 Adnation—संलग्नता
 Adneural—अवितंत्रिक
 Adnexed—आलग्न
 Adolescence—किशोरावस्था
 Adolescent—किशोर
 Adoption—दत्तक-ग्रहण, गोद
 Adoral—अभिमुखीय
 Adpressed—अधिलग्न
 Adrectal—अविमलाशयी
 Adrenal—अधिवृक्क
 Adsorbed—अविशोषित
 Adsorbent—अविशोषक, अविशोषी
 Adsorption—अविशोषण
 Adult—प्रौढ़, वयस्क
 Adulterate—अपमिश्रण करना,
 मिलावट करना
 Adulterated—अपमिश्रित, मिलावटी
 Adulteration—अपमिश्रण, मिलावट
 Ad valorem—नयामूल्य, मूल्यानुसार
 Advanced—प्रगत

Advancing—अग्रगामी, प्रगामी
 Advection—अधिवहन
 Adjective—अधिवाही
 Adventitious—अपस्थानिक, आगतुक
 Adventitia—वाह्य कंचुक
 Adventurer, Adventurous—
 साहसिक
 Adverse possession—विरुद्धाधिकार
 Aedeagus—लिगाग्रिका
 Aedian, edien—वायुद, वातोद
 Aelotropic—विपम दिक्
 Aeon—युग
 Aeration—वायु-मिश्रण, वातन
 Aerenchyma—वायुतक
 Aerial—आकाशी, वायव
 Aero-aquatic—जलदातीय
 Aerobe—वायु-जीव, आर्षितजीव
 Aerodynamics—वायुगतिकी
 Aerolite—अश्म-उल्का
 Aerologic (al)—वायुविज्ञानी
 Aerologist—वायु-वैज्ञानिक, वायु-
 विज्ञानी
 Aerology—वायु-विज्ञान
 Aeronautic—वैमानिकी
 Aeroplane—विमान, हवाई जहाज
 Aerosiderite—लोह-उल्का
 Aestivation—पुष्पदल विन्यास
 Aether—ईश्वर
 Afferent—अभिवाही
 Affinity—बंधुता
 Affluent—सहायक नदी
 Afforestation—वनरोपण
 After-effect—उत्तर-प्रभाव
 Agamete—अयुग्मक
 Agamous—अयुग्मनी
 Agany—अयुग्मन, अयुग्मकता
 Agaricacious—दहनशील
 Agaricoid—दहनकान
 Agaricole—दहनकवासी
 Agaricology—दहनक-विज्ञान
 Agaricolous—दहनकवासी
 Agate—गोमेद
 Age—काल, युग, आयु, वयस्क, उमर
 Agency—कारकता, अभिकर्तृत्व
 Agenda—नियमिनी
 Agent—अभिकर्ता, उमर, कारक
 Agglomerate—पुंजित
 Agglomerated—पुंजित
 Aggrading—अभिवर्धन
 Aggradation—अभिवर्द्धि

Aggregate—समुच्चय, पुज
 Aggregated—समुच्चयित
 Aggregation—समुच्चयन
 Agonic—शून्यदिकृपाती
 Agrarian—भूमिसंबंधी, भूमि-
 Agricultural—कृषीय, कृषि-
 Agriculturist—कृषक, किसान, कृषि-
 विज्ञानी
 Agro-forestal—कृषि-वनसंबंधी
 Agronomy—शस्य-विज्ञान
 Agrotypic—कृषीय प्रजाति
 A-horizon—क-संस्तर
 Air—वायु, हवा, वात
 Aircraft—वायुयान
 Air-navigation—विमानचालन
 Air-pressure—वायुदाव
 Air route—वायुमार्ग
 Air-tight—वायुरोधी
 Akinetic—निश्चेष्ट वीजाणु
 Ala—पक्षक
 Alate—सपक्षक
 Albinism—रंजकहीनता
 Albino—रंजकहीन जीव
 Albinotic—रंजकहीन
 Alburnum—रसदारु
 Alchemist—कीमियागर
 Alchemy—कीमिया
 Alepidate—विशल्की
 Algae—शैवाल
 Algebra—बीजगणित
 Algebraic, Algebraical—बीजीय
 Algebraically—बीजतः
 Algical—शैवालवासी
 Algalous—शैवालवासी
 Algorithm—कलन-विधि
 Alidade—दर्शरेखक
 Alienation—हस्तांतरण, स्वत्वांतरण
 Alignment—संरेखण
 Alimentary canal—आहार-नाल
 Alimentary system—आहार-तंत्र
 Aliquot part—अशेष-भाजक खंड
 Alisphenoid—पक्षजतुक
 Alkali—क्षार, क्षारीय
 Alkalic—क्षारीय
 Alkalimetry—क्षारमिति
 Alkaline—क्षारीय
 Alkalinity—क्षारता
 Allantoic—अपरापोषिका, अपरा-
 पोषिकीय
 Allantois—अपरापोषिका

Allegation—आरोप, झलजाम
 Allele—युग्म-विकल्पी
 Allelic—युग्मविकल्पी
 Allelism—युग्मविकल्पता
 Allelomorph—युग्मविकल्पी
 Alliaceous—लशुनी
 Allocthon—अपरस्थानिक
 Allocthonous—अपरस्थानिक
 Allogamous—परनिषेची
 Allogamy—परनिषेचन
 Allogenic—अन्यव्रजात
 Allotriomorphic—अपरूपक
 Allotrope—अपररूप
 Allotropic—अपररूपी
 Allotropism—अपररूपता
 Allotropy—अपररूपता
 Allocation—वँटवारा, विभाजन
 Alloy—मिश्रधातु, धातु-मिश्रण
 Allowance—भत्ता
 Alluvial—जलोढ़
 Alluvium—जलोढ़क
 Almanac—पंचांग
 Almond—वादाम
 Altazimuth—उद्दिगंशक
 Alteration—परिवर्तन
 Alternando—एकांतर अनुपात
 Alternant—एकांतरक
 Alternate—एकांतर
 Alternately—एकांतरतः
 Alternating—एकांतर, प्रत्यावर्ती
 Alternation—एकांतरण
 Alternative—वैकल्पिक
 Alternatively—विकल्पतः
 Alternator—प्रत्यावर्तित्र
 Altimeter—तुंगतामापी
 Altitude—तुंगता, उच्चता, ऊँचाई,
 उन्नतांश, शीषलंब
 Altocumulus—मध्यकपाली
 Altostratus—मध्यस्तरी
 Alum—फिटकरी
 Alveolar—कूपिका
 Alveolus—कूपिका
 A. M. (ante meridian)—पूर्वाह्न
 Amalgum—पारद-धातु मिश्रण
 Amalgamated—पारदित
 Amalgamation—पारदन
 Amber—कहूवा
 Ambiguity—संदिग्धता
 Ambiguous—संदिग्ध
 Ambitus—परिरेखा

Ambulacral—वीथि
 Ambulatory—चलनक्षम, चलनार्थ
 Amendment—संशोधन
 Ametabola—अकायांतरणी, अरूपांतरणी
 Ametabolous—अकायांतरणी
 Amethyst—जामुनी
 Amnion—उल्व
 Amniota—उल्वी-वर्ग
 Amount—मात्रा, परिमाण, रकम
 Amphibean—जलस्थलचर
 Amphibious—जलस्थली
 Amphicocous—उभयगुहिक
 Amphidisc—उभयपट्टिका
 Amphigamous—अज्ञात जननांगी
 Amphithecium—बाह्यस्तर
 Amphitropous—अनुप्रस्थ
 Amphoteretic—उभयधर्मी
 Amplexicaul—स्तंभालिगी
 Amplification—प्रवर्धन
 Amplifier—प्रवर्धक
 Amplifying—प्रवर्धक
 Amplitude—आयाम, कोणांक
 Ampulla—तुविका
 Amputation—विच्छेदन
 Amygdaloid(al)—वातामकी
 Amygdular—वातामकी
 Amyloplant—मंडप्लवक
 Anabolism—उपचय
 Anadromous—समुद्रापगामी
 Anaerobe—अवायुजीव
 Anaerobic—अवायु
 Anaesthetic—निश्चेतक, संवेदनाहरी
 Anal—गुद
 Analgeric—पीड़ाहारी
 Analogous—सदृश, अनुरूप, तुल्यरूप
 Analogy—सादृश्य, अनुरूपता, तुल्य-
 रूपता
 Analyse—विश्लेषण करना
 Analysed—विश्लेषित
 Analyser—विश्लेषक
 Analysis—विश्लेषण
 Analyst—विश्लेषक
 Analytical—विश्लेषात्मक, विश्लेषिक,
 विश्लेषीय
 Analytically—विश्लेषिक विधि से
 Anamorphism—जटिल कायांतरण
 Anaphoresis—ऋण-कण-संचलन
 Anapophyses—पश्चवर्ध
 Anarchy—अराजकता
 Anastigmatic—अनबिन्दुक

Appressorium—आसंगींग
 Appressed—लग्न
 Approach—उपगमन
 Approver—सरकारी गवाह
 Approximate—सन्निकट, लगभग
 Approximately—सन्निकटतः, लगभग
 Approximation—सन्निकटन
 Apricot—खुवानी
 Apse—स्तम्बिका
 Apsidal—स्तम्बिका
 Apsis—स्तम्बिका
 Aqua-culture—जल-कृषि
 Aquarium—जल-जीवशाला
 Aquarius—कुंभ
 Aquasol—जल-विलय
 Aquatic—जलीय
 Aqueous—जलीय
 Aquifer—जलभरा, जलभृत
 Arable—कृष्य, कृषित
 Arbitrary—स्वेच्छ
 Arbitration—पंचायत
 Arbitrator—पंच, मध्यस्थ
 Arboreal—वृक्षीय, वृक्षवासी
 Arborescent—वृक्षवत्, वृक्षसम
 Arboricolous—वृक्षवासी
 Arboriculture—वृक्ष-संवर्धन
 Arc—चाप
 Arch—चाप, मेहराव
 Archæan—आद्यमहाकल्प, आद्यमहा-
 कल्पी
 Archaeological—पुरातात्विक
 Archaeology—पुरातत्व-विज्ञान
 Archaic—आद्य, आदि, पुरातन,
 पुराकालीन
 Arched—चापाकार
 Archegonium—स्त्रीधानी
 Archenteron—आद्यंत्र
 Archesporial—प्रपसू
 Archesporium—प्रप्रसूतक
 Archetype—आद्यप्ररूप
 Archimorphic—पुराकृतिक
 Archinephric—आदिवृक्क
 Archinephros—आदिवृक्क
 Archipelago—द्वीपसमूह
 Archipterigya—आद्यपखीय
 Archipterygeum—आद्यपखक
 Architectural—स्थापत्य
 Arctic—उत्तरध्रुवीय, उत्तर-ध्रुव-
 Arctogaea—उत्तरम्
 Arcualia—आदिचापिका

Arcturus—स्वाति
 Arcuate—चापाकार
 Area—क्षेत्रफल, क्षेत्र
 Areal—क्षेत्रफलीय, क्षेत्रीय
 Arenaceous—वालुकामय
 Arenicole, Arenicolous—
 वालुकावासी
 Areole—गर्तरोम
 Arescent—शुष्कोन्मुख
 Argentate—रजताम
 Argenteum—रजतस्तर
 Argentic—रजतीय
 Argentiferous—रजतयुक्त, रजतमय
 Argentine—रजताम
 Argillaceous—मृण्मय, मृद्-
 Arid—रूक्ष, शुष्क
 Aridity—शुष्कता
 Aril—बीजचोल
 Arista—शक, श्रृंग
 Aristate—शूकमय, शूकधारी
 Arithmetic—अंकगणित
 Arm—बाहु, भुजा
 Armilla—वलयक
 Armillate—वलयकी
 Armoury—शस्त्रागार, हथियारघर
 Aromatic—सुरभि-
 Arrangement—विन्यास, व्यवस्था
 Array—सरणी, व्यूह
 Arrowroot—अरारूट
 Arsenal—शस्त्रागार, सिलहखाना
 Arsenious oxide—संखिया
 Art—कला
 Arterial—धमनी, धमनीय
 Arteriola—धमनिका
 Artery—धमनी
 Artesian—उत्सृज्य
 Arthropods—संधिपाद प्राणी
 Article—वस्तु, अनुच्छेद
 Articulation—संधि
 Artifice—युक्ति
 Artificial—कृत्रिम
 Artisan—शिल्पी, कारीगर
 Artistry—कारिगरी
 Aryan, Aryo—आर्य
 Ascend—आरोहण करना
 Ascendance—आरोहण
 Ascending—आरोही
 Ascension—आरोहण
 Ascend—आरोहण
 Aseptate—पटहीन

Asexual—अलैंगिक, अलिंगी
 Ash—राख, भस्म
 Aspect—अभिमुखता
 Asperic—अगोली
 Aspherizing—अगोलीकरण
 Aspirator—चूषित्र
 Asporogenic, Asporogenous—
 बीजाणु-अजन
 Assagai—माला
 Assay—अमापन
 Assemblage—समुच्चय
 Assigned—निर्दिष्ट
 Assimilate—स्वांगीकरण करना,
 अपनाना
 Assimilation—स्वांगीकरण
 Assimilative—स्वांगीकारक
 Associate—सहचारी
 Association—साहचर्य, सहवास
 Associativity—सहचारिता
 Associates—सहवासक
 Assortment—वर्गीकरण
 Assume—मानना, कल्पना करना
 Assumption—कल्पना
 Assurgent—वक्रारोही
 Astatic—अस्थतिक
 Aster—तारक, तारा
 Asterism—तारापुंज
 Astigmatic—अबिदुक
 Astigmatism—अबिदुकता
 Astraeiform—तारकाकार
 Astragalus—गुल्फास्थि
 Astringent—कषाय
 Astrographic—ताराचित्री
 Astrography—खगोल चित्रण
 Astrologer—ज्योतिषी
 Astrology—ज्योतिष
 Astrometry—खगोलमिति
 Astronomer—खगोलज्ञ
 Astronomical—खगोलीय
 Astronomy—खगोल-विज्ञान, खगो-
 लिकी
 Astrophysics—अपुष्टि
 Astro-physics—ताराभौतिकी
 Asymbiotic—असहजीवी
 Asymmetric(al)—असममित
 Asymmetry—असममिति
 Asymptote—अनंतस्पर्शी
 Asymptotic—उपगामी
 Asynchronous—अतुल्यकालिक
 Atavism—पूर्वजता

Atectonic—अविवर्तनिक
 Athermancy—ऊष्मा अपार्यता
 Athermanous—ऊष्मा-अपार्य
 Atmometer—वाष्पनमापी
 Atmosphere—वायुमंडल
 Atmospheric—वायुमंडलीय
 Atmosphericics—वायु-वैद्युत क्षोभ
 Atom—परमाणु
 Atomic—परमाण्वीय
 Atomicity—परमाणुकता
 Atomistics—परमाण्विकी
 Atomization—कणीकरण, कणन
 Atomize—कणित करना
 Atomizer—कणित्र
 Atrial—परिकोष्ठी, परिकोष्ठ-
 Atrichous—अरोमी
 Atriopore—परिकोष्ठरंध्र
 Atrium—अलिद, परिकोष्ठ
 Atrophy—अपुष्टि, क्षीणता
 Attachment—संलगन, (Law)
 कुड़की
 Attenate apex—संकीर्णाग्र
 Attenuation—क्षीणता, क्षीणन
 Attenuator—क्षीणकारी
 Attested—साक्ष्यंकित, प्रमाणित
 Attracted—आकृष्ट
 Attraction—आकर्षण
 Attribute—गुण
 Attrition—सन्निघर्षण
 Audibility—श्रव्यता
 Audible—श्रव्य
 Audio—श्रव्य
 Audiometer—श्रव्यतामापी
 Audit—लेखा-परीक्षा
 Auditorium—सभामवन
 Auditory—श्रवण
 Augend—योजक
 Augmentation—संवर्धन
 Aural—कर्णज
 Aureole—मंडल
 Auricle—पालि, अलिद, कर्णपल्लव
 Auriferous—स्वर्णमय
 Auriform—पालिरूप
 Aurora—ध्रुवीय ज्योति
 Authigenic—तत्रजात
 Auto—स्व, स्वतः
 Autoantibiosis—स्वप्रतिजीवित
 Autocarp—स्वनिषेचीफलन
 Autocarpus—स्वनिषेचफलन
 Autocatalysis—स्व-उत्प्रेरण

Autochthon—स्वस्थानिक शैलपिंड
 Autochthonous—स्वस्थानिक
 Autocollimating—स्वतः समांतरी
 Autocollimation—स्वतः समांतरण
 Autocorrelation—स्वसह-संबंध
 Autodeliquescent—स्वप्रस्वेदी
 Autoecious—एकाश्रयी
 Autoecology—स्वपारिस्थितिकी
 Autogamous—स्वकयुग्मी
 Autogamy—स्वकयुग्मन
 Autoicous—उभयलिगाश्रयी
 Autolith—अग्रजातर्वेश
 Autolysis—स्वलयन
 Automatic—स्वचालित, स्वतः
 Autometamorphieism—
 स्वकायांतरण
 Auto-oxidation—स्वतः उपचयन
 Autophagous—स्वतःभोजी
 Autophagy—स्वतःभोजिता
 Autopigmentation—स्वरंजन
 Autoretardation—स्वतःमंदन
 Autosome—अलिग-सूत्र
 Autostylic—स्वनिलंबित
 Autotomy—स्वविच्छेदन
 Autotransformer—स्वपरिणामित्र
 Autotrophic—स्वपोषित
 Autumn—शरद, पतझड़
 Autumnal—शारद
 Auxanogram—वृद्धि-आलेखी
 Auxanograph—वृद्धि-आलेख
 Auxanometer—वृद्धिमापी
 Auxiliary—सहायक
 Auxochrome—वर्णवर्धक
 Auxochromic—वर्णवर्धी
 Available—प्राप्य
 Avalanche—हिमानी अवधाव
 Avenue—व्रीथि
 Average—औसत, माध्य
 Awn—शक
 Axial—अक्षीय
 Axil—कक्ष
 Axillary—कक्षवर्ती, कक्षीय
 Axiom—स्वयंसिद्ध
 Axis—अक्ष
 Axle—धुरी
 Azeotrope—स्थिर-व्यथनांक
 Azeotropic—स्थिर-व्यथनांकी
 Azimuth—दिगंश
 Azimuthal—दिगशीय
 Azoic—जंतुहीन, प्रागैविक

B

Baboon—बैबून
 Baccate—सरस
 Bacillar, Bacilliform—दंडाकार
 Bacillus—दंडाणु
 Backbone—रीढ़
 Background—पृष्ठभूमि, पृष्ठ भूमिक
 Backwater—पश्च-जल
 Bacteria—जीवाणु
 Bacterial—जीवाण्विक
 Bactericidal—जीवाणुनाशी
 Bactericide—जीवाणुनाशी
 Bacteriological—जीवाणुविज्ञानसंबंधी
 Bacteriologist—जीवाणु-वैज्ञानिक,
 जीवाणु-विज्ञानी
 Bacteriology—जीवाणुविज्ञान
 Bacteriolysis—जीवाणुलयन, जीवा,
 ण्विक-विघटन
 Bacteriophage—जीवाणुभोजी
 Bad conductor—कुचालक
 Bail—जमानत, जामिन, प्रतिभू
 Bailable—जमानती
 Balance—तुला, तराजू
 Balanced—संतुलित
 Balancing—(*adj*) संतोलक; (*n*)
 संतोलन
 Ballistic—प्रक्षिपिक, प्रक्षेप-
 Ballistics—प्राक्षेपिकी
 Balloon—बैलून, गुब्बारा
 Balsam—गुलमहेंदी
 Band—पट्टी
 Banded—पट्टित
 Bank—तट, किनारा, बैंक
 Bar—पट्टी, स्तंभ, दंड, रोधिका, छड़
 शलाका, सिल, सिल्ली
 Barbarian—बर्बर
 Barbarianism—बर्बरता
 Barbaric—बर्बर
 Barbed—कंटकीय
 Barbel—स्पर्शप्रवर्ध
 Barbule—पिच्छिका
 Bark—छाल
 Barogram—वायुदाब-आलेख
 Barograph—वायुदाबलेखी
 Barometer—वायुदाबमापी
 Barometric—वायुदाबमापी
 Barometry—वायुदाबमिति
 Baroscope—वायुदाबदर्शी
 Barrel—पीपा

Barren—ऊसर, वंजर, अनुवंर, वंच्य
 Barrier—रोध, रोधिक
 Barter—वस्तु-विनिमय
 Barycentre—केंद्रक
 Barysphere—गुरुमंडल
 Basal—आधारिक, आधार-
 Basalia—आधारिका
 Basaltiform—संपुलकित
 Base—आधार
 Basidorsal—आधार-पृष्ठिका
 Basihyal—आधार-कठिका
 Basipodite—दूरपादांश
 Basic—आधारी, मूल
 Basifixed—अधःबद्ध
 Basifugal—अग्रामिसारी, तलापसारी
 Basil—तुलसी
 Basipetal—तलामिसारी
 Basis—आधार
 Bay—खाड़ी, उपसागर
 Beach—पुलिन
 Bead—मनका, मणिका
 Beak—चोंच, चंचु
 Beam—दंड
 Bean—सेम
 Bear—रीछ, माल
 Beat—विस्पंद
 Beating—विस्पंदन
 Bed—क्यारी, संस्तर, तल
 Bedrock—आधारशैल
 Bedded—संस्तरित
 Bedding—संस्तरण
 Bee—मधुमक्षिका
 Beeswax—मधुमोम
 Beet—चुकंदर
 Beetle—भृंग
 Behaviour—व्यवहार
 Belfry—पशुशाला
 Bellows—घोंकनी
 Belly—तूद
 Belt—कटबंध, मेखला, पेट्टी
 Bend—मोड़, घुमाव, वलय
 Bending—वंकन
 Beneficiation—सज्जीकरण
 Benthic—नितलस्थ
 Benthonic—नितलस्थ
 Benthos—नितल
 Berry—सरस फल
 Berrylet—सरसिका
 Betel nut—सुपारी
 Biangular—द्विकोणीय

Bias—अभिमत
 Biased—अभिमत
 Biaxial—द्विअक्षीय
 Biceps—द्विशिरस्क
 Bicipital—द्विशाखी, द्विशिरस्की
 Biconcave—उभयावतल
 Biconvex—उभयोत्तल
 Bicornuate—द्विशृंगी
 Bicuspid—द्वचग्री
 Bidimensional—द्विविम
 Bidimensionality—द्विविमता
 Biennial—द्विवर्षी
 Bifacial—द्विपृष्ठी
 Bifanged—द्विमूलीय
 Bifid—द्विशाखित, द्विशाखी
 Bifilar—द्विसूत्री, द्वितंतु
 Bifoliate—द्विपर्णी
 Bifollicular—द्विसंपुटकी
 Bifurcate—द्विशाखित होना या करना
 Bifurcation—द्विशाखन
 Bigeminal—द्विश्रेणिक
 Bilabiate—द्विओष्ठी
 Bilaminar—द्विफलकीय
 Bilateral—द्विपार्श्विक, द्विपार्श्व,
 द्विपक्षीय, द्विपक्ष
 Bilaterality—द्विपार्श्वता
 Bile—पित्त
 Bilingual—द्विभाषिक, द्विभाषिता
 Bill—चोंच, चंचु
 Billion—दस खर्ब, दस अरब
 Billow—महातरंग
 Bilobed—द्विपालिक
 Bilocular—द्विकोष्ठकी
 Bilophodont—द्विकटक
 Bimerous—द्वितयी
 Bimetallic—द्विधातुक
 Bimodal—द्विवहलक
 Biniary — (Astron.) युग्मतरा;
 (Chem.) द्वि-अंगी, द्विकर्मी; (Math.)
 द्विचर, द्वि-आधारी; द्विचरवर्ती, द्विक्रम
 Binaural—द्विकर्णी
 Binding—बंधन-बंधक
 Binocular—द्विनेत्री
 Binodal—द्विनोडी
 Binode—द्विनोड
 Binominal—द्विपद
 Binormal—उपाभिलंब
 Bio-chemical—जीव-रसायनिक
 Bio-chemistry—जीव-रसायन
 Biochore—जीवसीमा

Biogenesis—जैवोत्पत्ति
 Biogenous—जीवजीवी
 Biogeography—जीवभूगोल
 Biological—जैव, जैविक
 Biology—जीव-विज्ञान
 Bioluminescence—जीव-संदीप्ति
 Biometrician—जीव-सांख्यिक
 Biometry—जीव-सांख्यिकी
 Bionomic—जीवपारिस्थितिक
 Bionomics, Bionomy—जीवपारि-
 स्थितिकी
 Biophagus—जीव-भोजी
 Biophysics—जीव-भौतिकी
 Bioplasm—जीव द्रव्य
 Biosphere—जीव-मंडल
 Biota—जीव-समूह
 Biotic—जीवीय
 Biotite—काला अभ्रक
 Biotype—समानजीवी
 Biparous—(Bot.) द्विशाखी; (Zool.)
 द्विप्रसू
 Bipartite—द्विलंबी, द्विमाजित,
 द्विपाक्षिक, द्विदलीय
 Biped—द्विपाद
 Bipedal—द्विपाद
 Bipinnate—द्विपिच्छकी
 Biplanar—द्विसमतल
 Biplication—द्विवलन
 Bipolar—द्विध्रुवीय
 Bipunctate—द्विविदुक
 Biquadratic—चतुर्घात
 Biquartz—द्विस्फटिक
 Biramous—द्विशाखी
 Birch—भूर्ज
 Bird of prey—शिकारी पक्षी
 Bi-rectangular—द्विसमकोणीय
 Birefringence—द्वि-अपवर्तन
 Birefrigent—द्वि-अपवर्ती
 Birth—जन्म
 Bisect—द्विमाजित अथवा अर्धित करना
 Bisection—अर्धन, द्विमाजन
 Bisector, Bisecting—अर्धक, द्विमाजक
 Biserial—द्विपंक्तिक
 Biseriate—द्विपंक्तिक
 Bisexual—द्विलिंगी
 Bismuth—विस्मय
 Bisporic—द्विवीजाणुक
 Bisporic—द्विवीजाणुल
 Bitangent—द्विस्पर्शरेखा
 Bitter—तिवत, कड़वा

Biuncinate—द्विअंकुशी
 Bivalency—द्विसंयोजकता, युगलन
 Bivalent—युगली, द्विसंयोजक
 Bivalve—द्विकपाटी
 Bivariant, Bivariate—द्विचर
 Black sea—काला सागर
 Black green—कृष्ण हरित
 Bladder—थैली
 Blade—पटल
 Blanket—आवरण
 Blast—विस्फोट, झोंका (हवा का)
 Blasting—(adj.) विस्फोटक; (n.)
 विस्फोटन
 Bleach—(n.) विरंजक (v.) रंग उड़ाना,
 विरंजन करना
 Bleachability—विरंजकता
 Bleachable—विरंजनीय
 Bleaching—(n.) विरंजन, (adj.)
 विरंजक
 Bleeding—(n.) स्रवण, (adj.)
 स्रावी
 Blend, Blending—मिश्रण, मिश्र
 Blister—फफोला
 Block—खंड, खंडक, गुटका
 Blocking—अवरोध, अवरोधन
 Blood—रुधिर
 Bloom—पुष्पपुंज, राग
 Blossom—पुष्पपुंज, मंजरी, पुष्प
 Blossoming—पुष्पन
 Blotch—दाग
 Blow—आघात
 Blower—आघाता
 Bluish—नीलाम
 Blurred—अस्पष्ट
 Body—शरीर, देह, काय, पिंड, वस्तु
 Bog—दलदल
 Boiling—ब्वथन
 Boiling point—ब्वथनांक
 Bomb (Volcanic)—ज्वालामुखी बम
 Bombardment—बमबाजी
 Bond—बंध, बंधन
 Bone—अस्थि, हड्डी
 Bony—अस्थिल
 Boom—सहसा वृद्धि
 Border—सीमांत
 Bore—वेधन करना
 Borer—वेधक
 Botanist—वनस्पतिज्ञ
 Botany—वनस्पति-विज्ञान
 Botryoidal—गुच्छाकार

Bottom—तल, तली
 Bound—परिवंध, बद्ध
 Boundary—परिसीमा, सीमा, सीमांत
 Bounded—परिवद्ध
 Bounding—सीमक
 Boundless—अंतहीन
 Bourgeois—मध्यवर्ग
 Brachial—बाहु-
 Brachiole—पक्षक
 Brachium—प्रगंड
 Brachyaxis—लघु-अक्ष
 Brachyblast—लघुशाखा
 Brachycephalic—लघुशिरस्क
 Brachydont—लघुदंत
 Brachypodium—लघुपाद
 Brackets—कोष्ठक, बंधनी
 Brackish—नुनखरा, खारा
 Bract—सहपत्र
 Bracteate—सहपत्री
 Bracteole—सहपत्रिका
 Bractlet—सहपत्रक
 Braided—गुंफित
 Braiding—गुंफन
 Brain—मस्तिष्क
 Branch—शाखा
 Branched—शाखित
 Branching—शाखन
 Branchia—गिल, क्लोम
 Brass—पीतल, पित्तल
 Breadth—चौड़ाई
 Break—अवकाश, भंग
 Breakdown—भंग
 Breakwater—तरंगरोध
 Breast—छाती, स्तन
 Breathing—श्वसन
 Breccia—संकोणाश्म
 Brecciated—संकोणाश्मित
 Breed—नस्ल
 Breeding—प्रजनन
 Breeze—समीर
 Brew—मद्य बनना या बनाना
 Brewery—भट्ठी
 Bridge—पुल, सेतु
 Bridging—सेतु-बंधन
 Brilliancy—कांति
 Brimstone—गंधक
 Brine—लवण-जल
 Brinish—नमकीन
 Bristle—शुक
 Bristly—शुकमय

Brittle—मंगुर
 Brittleness—मंगुरता
 Br advertising—प्रसारण
 Broken—खंडित
 Brokerage—दलाली
 Bronze—कांसा, कांस्य
 Bronzing—कांस्यन
 Brood chamber—अंडकक्ष
 Brood pouch—भ्रूणवानी
 Brook—नाली
 Broom rapes—मुंडफोड़
 Brown—वादामी, भूरा
 Brushwood—झाड़
 Bubble—बुदबुद, बुलबुला
 Buccal—मुख-
 Buckling—आकुंचन
 Buckwheat—कटू
 Bud—कली, कलिका
 Budding—मुकुलन
 Budget—आय-व्ययक
 Buffer—उभय-प्रतिरोधी
 Buffering—उभय-प्रतिरोधन
 Building—(n.) इमारत, रचना;
 (adj.) इमारती
 Bulbous—कंदीय
 Bulge—उभार
 Bulk—आयतन, स्थूलता
 Bulky—स्थल
 Bumping—उच्छलन
 Bunch—गुच्छ, पुंज
 Bunched—गुच्छित
 Bund—बंध
 Bundle—बंधल, पूल
 Bunodont—दप्रदंत
 Bunodonta—दप्रदंती
 Buoyancy—उत्प्लावकता
 Burden—भार, बोझ
 Burner—बर्नर, ज्वालक
 Burning—आतशी, ज्वालक
 Burnt—दग्ध
 Burrow—विल
 Burrowing—विलकारी
 Burst—प्रस्फोट
 Bushel—बुशेल
 Buttress—दप्र, पुत्रता
 Bylane—उपवीथिका
 By-law—उपनियम
 By-pass—उपमार्ग, उपमार्गी
 By-product—उपोत्पाद
 Byssus—गूदगुच्छ

C

Cable—समुद्री तार
 Cadophore—मुकुलधर
 Caducous—आशुपाती
 Caecal—अंधनाल
 Caecum—अंधनाल
 Caenogenesis—नवोत्पत्ति
 Caenogenetic—नवोत्पन्न
 Caespitose—दंभिल
 Caffeine—कैफीन
 Cake—पिंड, सिल, बट्टी, टिक्की
 Calcium—कैल्सियम
 Calculate—परिकलन करना
 Calculating—परिकलन
 Calculation—परिकलन
 Calculus—कलन
 —differential—अवकलन
 Caldera—ज्वालामुखी कुंड
 Calendar—कैलेंडर
 Calibrated—अंशशोधित
 Calibration—अंशशोधन, अंशांकन
 Calm—शांत, प्रशांत
 Calomel—रस-कपूर
 Calorie—कैलोरी
 Calorimeter—ऊष्मा-मापी
 Calorimetry—ऊष्मामिति
 Calving—हिमानी-खंडन
 Calx—मस्म
 Calyx—बाह्यदलपुंज
 Camera—कैमरा
 Camouflage—छद्मावरण
 Campanulate—घंटाकार
 Camphene—कैम्फीन
 Camphor—कपूर, कर्पूर
 Canal—कुल्या, नहर
 Cancer—कर्क
 —tropic of—कर्क रेखा
 Candle—मोमवत्ती
 Canescent—जीर्णपर्णी
 Canine—रदनक
 Cannibal—नरभक्षी
 Cannibalism—नरभक्षण
 Cannibalistic—स्वजातिभक्षी
 Canonical—विहित
 Canvas—किरमिच
 Canyon—गभीर खड्ड
 Cap—टोपी, छत्रक
 Capacitance—धारिता
 Capacitive—धारिता-

Capacitor—संधारित्र
 Capacity—क्षमता, धारिता
 Cape—अंतरीप
 Capillary—केशिका
 Capilliform—केशवत्
 Capillitium—तंतु-जाल
 Capital—पूंजी, राजधानी
 Capital sentence—प्राणदंड
 Capitata—समंड
 Capitular—मंडतल
 Capping—छद
 Capricorn—मकर
 —, Tropic of मकर रेखा
 Capsular—संपुटी
 Capsule—संपुट, संपुटिका
 Carapace—पृष्ठवर्म
 Carat—कैरट
 Caravan—कारवां
 Carvancer—सार्थवाह
 Caraway—अजमोद
 Carbon—कार्बन
 Carbonated—कार्बनीकृत
 Cardiac—जठर, हृदय
 Cardinals—दिग्विदु
 Cardioid—हृदयाभ
 Cargo—नौभार
 Carnivora, Carnivorous—मांसाहारी
 Carotid—श्रीवा
 Carotin—पर्णवतिक
 Carpal—मणिबंधिका
 Carpel—अंडप
 Carpellary—अंडपी
 Carpology—फलरचना-विज्ञान
 Carpophore—फलधर
 Carpospore—फलबीजाणु
 Carpus—मणिबंध
 Carrier—वाहक
 Cartillage—उपास्थि
 Cartographer—मानचित्रकार
 Cartography—मानचित्रण (कला)
 Carved—उत्कीर्ण
 Case—विषय, प्रकरण, स्थिति
 Casein—केसीन
 Catabolism—अपचय
 Cataclasis—अपदलन
 Cataclasite—अपदलाश्म
 Cataclastic—अपदलनी
 Cataclysm—प्रलय
 Catadioptric—परापवर्ती
 Catalogue—सारणी

Cataloguing—सूचीकरण
 Catalyser—उत्प्रेरक
 Catalysis—उत्प्रेरण
 Catalyst—उत्प्रेरक
 Catalytic—उत्प्रेरक
 Cataract—प्रपात
 Category—संवर्ग
 Catenate—शृंखलित
 Catenulate—शृंखलित
 Caterpillar—इल्ली
 Cathode—कैथोड
 Cathodic—कैथोडी
 Cation—धनायन
 Cationic—धनायनिक
 Catoptric—परावर्तनी
 Cattle—पशु
 Caudal—पुच्छीय
 Caudate—पुच्छीय, पुच्छ
 Caudex—स्तंभमूल
 Caulescent—दृश्यस्तंभी
 Caulicolous—स्तंभवासी
 Cauliflower—फूलगोभी
 Cauline—स्तंभिक
 Causal—कारणात्मक
 Causality—कारणता
 Caustic—(adj.) दाहक, किरणस्पर्शी
 Causticization—दाहकीकरण
 Cave—गुहा, गुफा
 Cavern—कंदेरा
 Cavitation—कोटरन
 Cavity—कोटर, गुहिका
 Cedar—देवदारु, देवदार
 Celestial—खगोलीय
 Cell—कोशिका
 Cellular—कोशिकीय, कोशिकामय
 Cement—सीमेन्ट
 Cementation—संयोजन
 Census—गणना, जनगणना
 Centesimal—शतिक
 Centigram—सेंटिग्राम
 Centimeter—सेंटिमीटर
 Centepede—शतपाद
 Central—केंद्रीय
 Centre—केंद्र
 Centric—केंद्रिक
 Centrifugal—अपकेंद्री, अपकेंद्र
 Centrifuging—अपकेंद्रण
 Centriole—तारककेंद्र
 Centripetal—अभिकेंद्र, अभिकेंद्री
 Centroid—केंद्रक

Centrolecithal—केंद्रपीतकी
 Centrosphere—तारक-परिकेंद्र
 Cephalic—शिरस्य
 Cephalization—शिरप्राधान्य
 Cephalothorax—शिरोवक्ष
 Ceramic—चीनी मिट्टी
 Ceramics—मृत्तिका-शिल्प
 Ceratohyal—मध्यकंठिका
 Cerebellum—अनुमस्तिष्क
 Cerebral—प्रमस्तिष्कीय, प्रमस्तिष्क
 Cerebro—प्रमस्तिष्क
 Cerebrum—प्रमस्तिष्क
 Cervical—शैव
 Cervicum—श्रीवा
 Cervix uteri—गर्भाशय-श्रीवा
 Chamber—कोष्ठ, कक्ष, कक्षिका
 Chamois—साँभर
 Chance—संयोग, अवसर
 Change—परिवर्तन, अंतर
 Channel—प्रणाल, वाहिका, जलमार्ग
 Character—लक्षण, गुण, स्वरूप
 Characteristic—(n.) लक्षण, विशेषता, अभिलक्षण
 Charcoal—काठ कोयला, चारकोल
 Chasm—गह्वर
 Check—जाँच, निरोध
 Chemical—रासायनिक
 Chemisorbtion—रासायनिक शोषण
 Chemist—रसायनज्ञ
 Chemistry—रसायन, रसायन-विज्ञान
 Chemo—रसायन
 Chewing—चर्वण
 Chimney—चिमनी
 Chloric—क्लोरिक
 Chloroform—क्लोरोफार्म
 Chlorometer—क्लोरीनमापी
 Chlorometry—क्लोरीनमिति
 Chlorophyll—पर्णहरित
 Chlorosis—हरिमाहीनता
 Chlorotic—हरिमाहीन
 Chocolate—चाकलेट
 Choice—चरण, चयन, चुनाव
 Choline—कोलीन
 Chondroid—उपास्थिसम
 Chord—जीवा
 Chorda dorsalis—पृष्ठ-रज्जु
 Chorion—जरायु
 Chorography—क्षेत्रवर्णनी भूगोल
 Choroid—रक्तक-पटल
 Choroid plexus—रक्तक जालक

Choropleth—वर्णमात्री
 Choro-shematic—वर्णप्रतीकी
 Chromate—क्रोमेट
 Chromatic—वर्णिक
 Chromaticity—वर्णकता
 Chromatism—वर्णकता
 Chromatophore—वर्णकी लवक
 Chromatoscope—वर्णदर्शक
 Chrome—क्रोम
 Chromic—क्रोमिक
 Chromium—क्रोमियम
 Chromocentre—परिसूत्र बिंदु
 Chromogen—वर्णकोत्पादक
 Chromogenesis—वर्णकोत्पादन
 Chromogenetic—वर्णकोत्पादकी
 Chromometer—वर्णमापी
 Chromoparous—वर्णक-उत्सर्गी
 Chromophilous—अभिरंजकरागी
 Chromophore—वर्ण-मूलक
 Chromophorous—वर्णकवाही
 Chromoplast—वर्णी लवक
 Chromoscope—वर्णदर्शी
 Chromosphere—वर्ण-मंडल
 Chronograph—समयलेखी
 Chronological—कालानुक्रम
 Chronology—कालानुक्रम
 Chronometer—कालमापी
 Cilia (Cilium)—पक्ष्माभिका
 Ciliary—पक्ष्माभिकी
 Ciliated—पक्ष्माभिकामय
 Cinchona—सिकोना
 Cinema—सिनेमा, चलचित्र
 Cinematography—चलचित्रिकी
 Cinereous, Cineraceous—भस्मी
 Cinigulum—मेखला
 Cinnabar—ईंगुर, सिंगरफ
 Cinnamon—दालचीनी
 Cion (Sion, Scion)—कलम
 Cipher—शून्य, सिफर
 Circinate—कुंडलित
 Circle—वृत्त
 Circuit—परिपथ
 Circulating—परिसंचारी
 Circulation—परिसंचरण
 Circulatory—परिसंचारी
 Circumcentre—परिकेंद्र
 Circumcircle—परिवृत्त
 Circumference—परिधि
 Circumnavigation—नौ-परिसंचलन
 Circumnutation—शिखाचक्रण

Circumorbital—परिअक्षीय
 Circumpolar—परिध्रुवीय
 Circumscribed—परिगत
 —circle—परिवृत्त
 Cirrhous—संततु
 Cisform—समपक्षरूप
 Cistern—हौज, कुंडिका
 Citadel—नगर-दुर्ग, गढ़
 Citron—गलगल
 City—नगर, शहर
 Cladophyll—पर्णामस्तंभ
 Clam—सीपी
 Clamp—शिकंजा
 Clan—गोत्र, कुल
 Clarify—निर्मल करना
 Clasper—आलिंगक
 Class—वर्ग, संवर्ग
 Classical—चिरसम्मत, शास्त्रीय
 Classification—वर्गीकरण
 Classified—वर्गीकृत
 Clastic rock—सखंडाश्म
 Clavate—मुद्गराकार
 Claw—नखर
 Clay—मिट्टी, चिकनी मिट्टी, मृत्तिका
 Cleaner—शोधित्र, मार्जक
 Cleanse—शोधन करना, साफ करना
 Clearing—निर्मलन
 Cleavage—विदलन, दरार, विदर
 Cleaved—विदलित
 Cleft—(adj.) विदलित; (n.) दरार, विदर
 Clepsydra—जलघड़ी
 Cliff—भृगु
 Climate—जलवायु
 Climatic—जलवायु-संबंधी
 Climatology—जलवायु-विज्ञान
 Climax—चरम अवस्था
 Climber—आरोही लता
 Climbing—आरोही
 Clinoaxis—प्रवण-अक्ष
 Clinometer—प्रवणतामापी
 Clip—क्लिप
 Cloaca—अवस्कर
 Clock—घड़ी
 Clockwise—दक्षिणावर्त
 Close coupling—गाढ़ युग्मन
 Closed—संवृत्त, बंद
 Closure—निर्मूलन, वेष्टन
 Clot—धक्का
 Cloud—मैघ, बादल, अत्र

Clouded—भेधाच्छन्न, घुंघला

Clove—लवंग, लौंग

Cluster—गुच्छ

Clypeus—मुखपाली

Cnemial—प्रबंधिका

Cnidocil—दंश-प्रवर्ध

Coagulate—स्कंदन

Coagulated—स्कंदित

Coagulation—स्कंदन

Coagulum—स्कंद

Coal—कोयला, पत्थर का कोयला

Coaltar—अलकतरा

Coalesce—संलीन होना, सम्मिलित होना

Coalescence—सम्मिलन, संलयन

Coarse—स्थूल, मोटा, घटिया

Coast—तट

Coastal—तटीय

Coat—आवरण, लेप, विलेप

Coated—लेपित, विलेपित

Coating—लेपन, विलेपन

Coaxal, Coaxial—समाक्ष

Coaxially—समाक्षतः

Cobalt—कोबाल्ट

Cocaine—कोकेन

Coccus—गोलाणु

Coccygeal—अनुत्रिक

Coccyx—अनुत्रिक

Cochlea—कर्णावर्त

Cockroach—तिलचट्टा

Cocoon—कोकून, कोया

Code—संकेत, कोड

Coefficient—गुणांक

Coelenteron—अंतरगुहिका

Coeliac—उदरगुहा-

Coelom (e)—सीलोम, देहगुहा

Coelostat—तारास्थापी

Coenocytic—संकोशिकी

Cocnosarc—योजकनाल

Coercive—निग्रह

Coercivity—निग्राहिता

Co-existent—सहवर्ती

Co-factor—सहखंड

Co-gradient—सह्रूपांतरी

Cogwheel—दंत-चक्र

Cognate—सजात

Cohabitation—सहवास

Cohere—संसक्त होना

Coherence—संबद्धता, संसक्तता

Coherent—संबद्ध, संसक्त

Cohesion—संसंजन

Cohesive—संसंजक

Coil—कुंडली

Coiled—कुंडलित

Coiling—कुंडलीकरण

Coin—सिक्का, मुद्रा

Coincide—संपाती होना

Coincidence—संपात

Coincident—संपाती

Coition (Coitus)—संयुन

Coke—कोक

Cold—शीत, ठंडा

Coleoptile—प्रांकुर-चोल

Coleorbiza—मूलांकुर चोल

Colic—बृहदंत्र

Collaborator—सहयोगी

Collapse—निपात

Collection—संग्रह

Collective—सामूहिक

Collector—संग्राहक

Collenocyte—श्लेपी कोशिका

Collimate—संघानित करना

Collimating—समांतरकारी

Collimation—संघान, समांतरण

Collimator—संघानक, समांतरित्र

Collinear—समरेख

Collinearity—समरेखता

Collision—संघट्ट, टक्कर, संघट्टन

Colloid—कोलाइड

Colobus—कोलोबस

Colon—कोलन, बृहदंत्र

Colonist—उपनिवेशी, उपनिवेशक

Colonization—उपनिवेशन

Colony—निवह, उपनिवेश

Coloration—रंजन

Colorimeter—वर्णमापी

Colorimetric—वर्णमापी

Colorimetry—वर्णमिति

Colour—रंग, वर्ण

Coloured—रंगीन

Colouring—(adj.) रंजक; (n.) रंजन

Combinational—संयुक्त

Combined—योगिक, संयुक्त

Combining—संयोजी

Combustible—दाह्य

Combustion—दहन

Comet—बूमकेतु, पुच्छलतारा

Commate—रोमगुच्छी

Commensal—सहभोजी

Commensalism—सहभोजिता

Commensurable—सम्मेय

Commercial—व्यापारिक

Commingle—सम्मिश्रण

Commissary—अधिकारी

Commission—कमीशन, आयोग, दलाली

Commisural—परियोजी, संघायी

Commodity—पण्य

Common—साधारण, सामान्य

Communal—समुदायी, सामुदायिक, सांप्रदायिक

Communalism—सामुदायिकता, सांप्रदायिकता

Communication—संचार

Community—समुदाय

Commutate—दिक्परिवर्तन करना

Commutative—क्रम-विनिमेय

Commutator—दिक्-परिवर्तक

Compact-(n.) संहति; (adj.) संहत (v.) संहत करना या होना

Compaction—संहनन

Companion—सहचर

Comparative—तुलनात्मक

Comparator—तुलनित्र

Comparison—तुलना

Compass—कुतुबनुमा, दिक्सूचक, कंपास

Compasses—परकार

Compensate—क्षतिपूर्ति करना, प्रति-कार करना

Compensated—प्रतिकारित

Compensating—प्रतिकारी

Compensation—प्रतिकार, क्षतिपूर्ति

Compensator—प्रतिकारित्र

Compensatory—क्षतिपूरक, प्रतिकारी

Competency—क्षमता, सामर्थ्य

Competent—समर्थ

Competition—प्रतियोगिता

Complement—पूरक

Complementary—पूरक

Complete—पूर्ण, संपूर्ण

Complex—सम्मिश्र, संकर, जटिल

Compliance—अनुवृत्ति

Complicated—जटिल

Component—घटक

Composite—संग्रथित, मिश्र

Composition—संघटन, संयोजन

Compound—यौगिक, मिश्र

Compounded—संयोजित

Compounding—संयोजन, संयोजक

Compressed—संपीडित

Compressibility—संपीड्यता

Compressible—संपीड्य
 Compression—संपीडन
 Compressive—संपीडन
 Computation—परिकलन
 Computational—परिकलनी
 Computer—परिकलक
 Concave—अवतल
 Concavity—अवतलता
 Concentrate—(n.) सांद्र (v.) सांद्र करना, गाढ़ा करना, संकेन्द्रित करना
 Concentration—सांद्रण, गाढ़ापन, सांद्रता
 Concentrator—सांद्रक
 Concentric—संकेन्द्री
 Concept—धारणा, संकल्पना
 Conceptacle—धानी
 Conception—संकल्पना
 Conch—शंख
 Conchate—शंखाकार
 Conchoid, Conchoidal—शंखाभ
 Conclusion—परिणाम, निष्कर्ष
 Concolorous—समवर्णी
 Concomitant—सहगामी
 Concord—सुसंगति, सुश्रवता
 Concordant—सुसंगत, सुस्वर
 -(Geol.) अनुस्तरी
 Concrete—कंकरीट
 Concretion—संग्रथन
 Concretionary—संग्रथित
 Concurrence—संगमन
 Concurrent—संगामी
 Concyclic—एकवृत्तीय
 Condensation—संघनन
 Condense—संघनित करना
 Condensed—सघनित
 Condenser—संघनित्र
 Condensing—संघननकारक
 Condition—प्रतिबंध, शर्त, दशा, अवस्था, परिस्थिति
 Conditional—प्रतिबंधी
 Conditioned—अनुकूलित, प्रतिबाधित
 Conditioning—अनुकूलन
 Condominium—सहशासित प्रदेश
 Conductance—चालकता
 Conduction—चालन
 Conductive—चालनीय
 Conductivity—चालकता
 Conductometer—चालकतामापी
 Conductor—चालक
 Condyle—अस्थिकंद

Cone—शंकु, कोण
 Confidence—विश्वास्यता
 Configuration—विन्यास, संरूपण
 Configurational—विन्यासी
 Confirmation—संपुष्टि
 Confirmatory—संपुष्टिकारी
 Confluence—संगम
 Confocal—संनाभि
 Conformable—समविन्यासी
 Conformal—अनुकोण
 Conformity—समविन्यास
 Congeal—जमना, जमाना
 Congenital—जन्मजात
 Conglobate—संपिंडित
 Conglomerate—संगुटिका, संगुटिकाश्म
 Conglomeration—संगुटीकरण
 Congruence—सर्वांगसमता
 Congruent—सर्वांगसम, समशेष
 Conic—शोकव
 Conical—शंकु-रूप, शंकवाकार
 Conicoid—शांकवज
 Conics—शांकव गणित
 Conifer—शांकु वृक्ष
 Coniferous—शंकुचारी
 Conjoint—संयुक्त
 Conjugant—संयुग्मक
 Conjugate—(adj.) संयुग्मी; (n.) संयुग्मन करना
 Conjugated—अनुबद्ध, संयुग्मित
 Conjugating—संयुग्मन
 Conjugation—संयुग्मन
 Conjunction—योग, युति
 Connate—सहजात
 Connation—सहज संयोजन
 Connect—संबद्ध करना, जोड़ना
 Connected—योजित
 Connecting—योजक, संयोजी
 Connection—संबंधन, जोड़
 Connective—योजी, संयोजी, संयोजक
 Connivent—अग्रस्पर्शी
 Conoid—शंकुभ
 Consanguineous—समोद्भव
 Consanguinity—समोद्भवता
 Consecutive—क्रमागत
 Consequent—(adj.) अनुवर्ती; (n.) परपद
 Consequent poles—उपध्रुव
 Conservation—संरक्षण
 Conservative—संरक्षी
 Consistence—संगति, अविरोध

Consistent—संगत, अविरोधी
 Consistometer—गाढ़तामापी
 Consociation—संवास
 Consociates—संवासक
 Consolidated—संपिंडित
 Consolidation—संपिंडन
 Consonance—संवाहिता
 Consonant—सवाही
 Consortium—सहजीवन
 Constancy—स्थिरता
 Constant—नियत, स्थिर, अचर, अचल, एक-समान, सतत, अविरत
 Constellation—तारा-मंडल
 Constituent—अवयव, पटक
 Constitution—रचना, संघटन
 Constitutional—संघटनात्मक, रचनात्मक
 Constrained—प्रतिबंधित
 Constraint—प्रतिबंध
 Constricted—संकीर्णित
 Constriction—संकीर्णन
 Constrictor—संकीर्णक
 Construct—रचना करना, निर्माण करना
 Construction—रचना, निर्माण
 Constructive—रचनात्मक
 Consume—खपाना, उपभोग करना
 Consumption—व्यय, उपभोग, खपत
 Contact—संस्पर्श, संपर्क, स्पर्श
 Contagious—संसर्गज
 Contain—अंतविष्ट करना
 Contaminated—संदूषित
 Contamination—संदूषण, संदूष्यता
 Contemporary—समकालीन
 Content—अंतर्वस्तु, अंश
 Contiguous—समीपस्थ, संलग्न
 Continent—महाद्वीप
 Continental—महाद्वीपीय
 Continentality—महाद्वीपीयता
 Contingency—आसंग
 Continued—वित्तत
 Continuity—सातत्य
 Continuous—सतत, अविरत, अविच्छिन्न
 Continuum—साततत्मक
 Contorted—कुंचित
 Contortion—कुंचन
 Contour—रूपरेखा
 Contract—संकुचित करना या होना
 Contracted—संकुचित

Contractile—संकुचनशील
 Contracting—संकुची
 Contraction—संकुचन
 Contra-current—प्रतिगामी
 Contradiction—विरोध
 Contra-gradient—प्रविरुपांतरी
 Contraposed—प्रतिस्थापित
 Contra-related—प्रतिसंबंधित
 Contrast—विपर्यास
 Contrasting—विपरीत
 Contravalency—प्रति-संयोजकता
 Contravariant—प्रतिचर
 Contrivance—प्रयुक्ति
 Control—नियंत्रण
 Controller—नियंत्रक
 Controlling—नियंत्रक
 Convection—संवहन
 Convectional—संवहनीय
 Convective—संवहनी
 Convective—संवहनकारक
 Conventional—रूढ़
 Converge—अभिसरित होना या करना
 Convergence—अभिसरण
 Convergent—अभिसारी
 Converging—अभिसारी
 Converse—विलोम, विपरीत
 Conversely—विलोमतः
 Conversion—रूपांतरण
 Convert—रूपांतरण करना
 Converter—परिवर्तक, परिवर्तित
 Convex—उत्तल
 Convexity—उत्तलता
 Convexo-concave—उत्तलावतल
 Convexo-convex—उभयोत्तल
 Convex-solid angle—उत्तल कोण
 Convolute, Convoluted—संवलित
 Convolution—संवलन
 Cool—शीतल
 Cooling (*n.*);—शीतलन, (*adj.*)
 शीतलक
 Cooperative—सहकारी
 Coordinate—निर्देशांक, निर्देशी
 Coordinates—निर्देशांक
 Coordination—समन्वय
 Cop—शिखर
 Coplanar—समतलीय
 Copper—ताँवा, ताम्र
 Copperas—हराकस, कसीस
 Coppice—गुल्मवन

Copra—खोपरा, गरी
 Coprodaeum—पूर्व-अवस्कर
 Coprophagous—विष्टामोजी
 Coprophagy—विष्टामोजिता
 Copula—सेतुक
 Copulation—मैथुन, सयुग्मन
 Copulatory—मैथुनी, मैथुन-
 Coracoid—अंसतुंड
 Coral—प्रवाल, मूंगा
 Coralloidal—प्रवालाभ
 Corallum—प्रवाल
 Core—क्रोड
 Coriaceous—चर्मिल
 Coriandar—वनिया
 Corium—चर्म
 Cork—कार्क, काग
 Corm—पनकंद
 Cormorant—पनकोया
 Corn—धान्य, मक्का
 Cornice—कानिस
 Corniculate—शृंगी
 Cornified—शृंगित
 Cornu—शृंग
 Cornual—शृंगी
 Cornute—शृंगी
 Corolla—दलपुंज
 Corollary—उपप्रमेय
 Corona—किरीट
 Coronal—किरीटी, किरीट-, हृद्
 Coronoid—चंचुभ
 Corpus—पिंड
 Corpuscle—कणिका
 Corpuscular—कणिकामय
 Corpusculum—पिंडक
 Corrasion—अपघर्षण
 Correct—शुद्ध, ठीक, सही
 Corrected—संशोधित
 Correction—संशोधन, संशुद्धि
 Correlated—सहसंबंधित
 Correlation—सहसंबंध
 Correlogram—सहसंबंधचित्र
 Correspond—संगत होना, तदनुकृति
 होना
 Correspondence—संगतता
 Corresponding—संगत
 Corrode—संक्षारित करना
 Corrosion—संक्षारण
 Corrosive—संक्षारक
 Corrugated—नालीदार
 Cortex—वल्कुट

Cortoculous—वल्कवांसी
 Corundum—कुरंड
 Corymb—समशिक्ष
 Cossec—व्युत्क्रमज्या
 Coseismal line—सहमूकपन-रेखा
 Cosmetics—अंगराग
 Cosmical—ब्रह्माण्डीय
 Cosmic—अंतरिक्ष
 Cosmogony—ब्रह्मांडोत्पत्ति
 Cosmology—ब्रह्मांडिकी
 Cosmos—ब्रह्मांड
 Costa—शिरा, पशुका
 Costal—पशुकी
 Costate—शिरायुक्त
 Cost price—क्रय-मूल्य
 Coterminus—सहावसानि
 Cotidal—समज्वारीय
 Cotton—कपास
 Cotyledon—बीजपत्र
 Cotyledonary—बीजपत्रीय
 Cotyliform—बीजपत्राकार
 Cotyloid bone—कसास्थि
 Cotype—सहप्ररूप
 Coulee—लावा-प्रवाह
 Count—गिनती, गणना
 Countable—गणनीय
 Counter—गणित
 Counterbalance—प्रतिसंतुलन
 Counter-clockwise—वामावर्त
 Counter-current—विपरीत धारा
 Counterpoise—प्रतितोल
 Counterpoised—प्रतितुलित
 Counterweight—प्रतितोलकभार
 Counting rate—गणन-दर
 Country rock—स्थानीय शैल
 Couple—बल-युग्म
 Coupled—युग्मित
 Coupling—युग्मन
 Course—मार्ग
 Courtship—अनुरंजन
 Covalence—सहसंयोजकता
 Covalence, Covalency—
 सहसंयोजकता
 Covalent—सहसंयोजक
 Covariance—सहप्रसरण
 Covariant—सहपरिवर्त
 Covariation—सहविचरण
 Cover—आवरण
 Covered—आवृत्त
 Covering—आवरण

Coverts—देहपिच्छ
 Coxa—कक्षांग
 Coxite—कक्षाघार
 Coxopodyte—कक्षीपादांश
 Crab—कैकड़ा, कर्कट
 Crack—दरार
 Cracker—पटाखा
 Crackle—चटचटाना
 Crag—शृंग
 Crane—सारस
 Cranial—कपालीय
 Cranidium—ऊर्ध्वकपाल
 Cranium—कपाल
 Crater lake—ज्वालामुखी झील
 Crateriform—कटोराकार.
 Crawl—विसर्प
 Crawling—रिंगी (n.) रिंगण
 Cray—कूटक
 Creation—सृष्टि
 Creative—सर्जनात्मक
 Credit—(n.) उधार; (v.) जमा करना
 Creeping—विसर्पण
 Creeping plant—विसर्पी लता
 Crenate—कुंठदंती
 Crenulated—सूक्ष्मदंती
 Crescent—बालचंद्र (adj.) धन्वाकार,
 बालचंद्राकार, चापाकार
 Crest—शिखा, शीर्ष, शृंग, शिखर
 Crested—किरीटी
 Crevasse—हिम-विदर
 Crevice—विदरिका
 Crib—शिखर
 Cricket—झींगूर
 Crimson—किरमिजी
 Crinkling—कुंचन
 Crispate—कुंचित
 Cristate—किरीटी
 Criterion—कसीटी
 Critical—आलोचनात्मक, क्रान्तिक
 Crocodile—मकर, नक्र
 Crome—क्रोम
 Crop—शस्य, फसल
 Cross—संकर, संकरण, तिर्यक
 Cross fertilization—परनिषेचन
 Crown—शिखर, मुकुट
 Crude—अपरिष्कृत, कच्चा
 Crush—संदलन
 Crist—पर्पटी, पपड़ी, पटल
 Crustification—पपड़ी बनना
 Crustified—पर्पटित

Crustose—पर्पटीमय
 Cryoscope—हिमांकमापी
 Cryoscopy—हिमांकमापन
 Cryptic—गोपक, गुप्त
 Cryptovolcanic—गूढ़ ज्वालामुखीय
 Cryptozoic—तमजीवी
 Crypts—प्रगुहिका
 Crystal—क्रिस्टल, रवा
 Crystalline—क्रिस्टलीय, रवेदार
 Cube—घन
 Cubic, Cubical—घन, घनाकृति,
 घनीय, त्रिघात
 Cubit—हाथ
 Cuboid—घनास्थि
 Cuboidal—घनाकार
 Cucumber—ककड़ी, खीरा
 Cultivable—कृष्य
 Cultivation—कृषि
 Cultural—सांस्कृतिक
 Culture—संवर्ध, संवर्धन, संस्कृति,
 पालन
 Culvert—पुलिया
 Cumin—जीरा
 Cumulant—संचयी
 Cumulate—संचित
 Cumulative—संचयी
 Cuneate, Cuneiform—फानाकार
 Cupel—खर्पर
 Cupellation—खर्परण
 Cupola—गुंबद
 Cupronickel—ताम्र-निकल
 Cupule—प्यालिका
 Cupuliform—प्यालिकाकार
 Curator—संग्रहालय-अध्यक्ष
 Cure—चिकित्सा, संसाधन
 Current—धारा, प्रवाह
 Curvature—वक्रता
 Curve—वक्र, वक्र रेखा
 Curved—वक्र
 Curvilinear—वक्र रेखी
 Cusp—उभयाग्र
 Cuspate—अग्रवर्धी
 Cuspidal—उभयाग्री
 Custard apple—शरीफा
 Custom—सीमा-शुल्क
 Cutaneous—त्वचीय
 Cutch—खदिर कत्या
 Cuticle—उपत्वचा, उपचर्म
 Cutis—चर्म
 Cuttings—कतरन

Cwm—हिमज गह्वर
 Cycle—चक्र, आवर्तन
 Cyclic—चक्रीय, चक्रिक
 Cyclical—चक्रीय
 Cyclically—चक्रतः
 Cycloid—चक्रज, चक्राम
 Cycloidal—चक्रजीय
 Cyclone—चक्रवात
 Cyclosis—जीव द्रव्य भ्रमण
 Cylinder—बेलन, सिलिंडर.
 Cylindrical—बेलनाकार
 Cylindroid—बेलनाम
 Cymbiform—नौकाकार
 Cyme—ससीमाक्ष
 Cymose—ससीमाक्षी
 Cypher—शून्य, सिफर
 Cytogenetic—कोशिकानुवंशिक
 Cytogenesis—कोशिकानुवंशिकी
 Cytogenous—कोशिकोत्पादक
 Cytological—कोशिकीय
 Cytology—कोशिका-विज्ञान
 Cytostome—कोशिकामुख

D

Dairy—दुग्धशाला
 Dale—घाटी
 Dam—बाँव
 Dammed—अवरुद्ध
 Damp—नम, आर्द्र
 Damping—अवमंदन
 Dampness—सीलन, आर्द्रता, नमी
 Dark ages—तमोयुग
 Dart—प्रासक
 Data—दत्त, उपात्त, आँकड़े
 Date—खजूर, छुहारा
 Datum level—आधार तल
 Daughter atom—विघटन परमाणु
 Daughter Cell—संतति कोशिका
 D.C.—डीसी, दिष्ट धारा
 D.D.T.—डी. डी. टी.
 Deactivation—निष्क्रिय करण,
 निष्क्रियण
 Dead mine—रिक्त खान
 Dead Sea—मृत सागर
 Debris—मलवा
 Decagon—दशभुज
 Decagram—डेकाग्राम
 Decant—नियारना, निगारण करना
 Decanter—नियरनी, निगारित्र

Decapitation—शिरच्छेदन
 Decay—क्षय
 Deceleration—मंदन
 Decelerometer—मंदनमापी
 Decidua—पतनिका
 Deciduous—पर्णपाती, पाती
 Decigram—डेसिग्राम
 Decile—दशमक
 Decimal—दशमलव, दशमिक
 Decimalize—दशमलवकरण,
 दशमिकीकरण
 Declinate—अघोनत
 Declination—दिक्पात, क्रांति, अपक्रम
 Declinometer—दिक्पात मापी
 Declivity—ढाल
 Decollement—अपकर्तन
 Decoloration—विरंजन
 Decolorization—विरंजनीकरण
 Decolourise—विरंजित करना या होना
 Decompose—अपघटन होना
 Decomposed—अपघटित
 Decomposition—अपघटन, वियोजन
 Decomposing—अपघटक
 Decrease—(n.) ह्रास (v.)—ह्रास होना
 Decreasing—ह्रासमान
 Decrement—अपक्षय
 Decrepitate—कड़कड़ाना
 Decrepitation—कड़कड़ाना, कड़कड़ाना
 Decurrent—अधोवर्ती
 Deduce—निगमन करना
 Deducible—निगम्य
 Deduction—निगमन
 Deductive—निगमनिक
 Deep—गंभीर
 Defacto—वास्तविक
 Defect—कमी, क्षति, दोष
 Defective—सदोष
 Defensive—सुरक्षा, प्रतिरक्षा
 Defile—संकीर्ण दर्रा
 Define—निश्चित करना, परिभाषित
 करना
 Defined—निश्चित, स्पष्ट
 Definite—निश्चित
 Definition—परिभाषा, स्पष्टता,
 निश्चयन
 Deflagrate—उद्दहन अपस्फीत करना,
 हवा निकालना
 Deflation—अपवाहन, अपस्फीति
 Deflect—विक्षेपित करना
 Deflecting—विक्षेपक

Deflection—विक्षेप
 Deflexed—अपनत
 Deflocculating—अनूर्णक
 Deflocculation—अनूर्णन
 Defoliation—निष्पत्रण
 Deforestation—वन-अपरोपण
 Deformation—विरूपण, विकृति
 Deformative—विरूपक, विरूप
 Degeneracy—अपभ्रष्टता
 Degenerate (v.)—अपभ्रष्ट होना.
 (adj.) अपभ्रष्ट
 Degenerated—ह्रासित
 Degeneration—ह्रास, अपभ्रंशन
 Degradation—निम्नीकरण, निम्न-
 कोटीकरण
 Degraded—निम्नीकृत
 Degree—अंश, अंशांक, मात्रा, घात,
 कोटि
 Dehiscence—स्फुटन
 Dehydrate—निर्जल करना
 Dehydrated—निर्जलित, निर्जलीकृत
 Dehydrating—निर्जलीकारक
 Dehydration—निर्जलीकरण
 Dejection cone—अवसाद शंकु
 Dejure—वैध
 Delayed—विलंबित
 Delicate—सूक्ष्म
 Deliquesce—प्रस्वेदित होना
 Deliquescence—प्रस्वेदन
 Deliquescent—प्रस्वेद्य,
 पसीजनेवाला, प्रस्वेदी
 Delta—डेल्टा
 Deltaic—डेल्टीय
 Delthyrium—त्रिकोणी छिद्र
 Deltidium—त्रिकोणिका
 Deltoid—डेल्टाकार, त्रिकोणाकार
 Deltoidus—अंसछदा
 Demagnetise—विचुंबकित करना
 Demersal—तलमज्जी
 Demi-plate—अर्ध-पट्ट
 Demographic—जनसांख्यिकीय
 Demography—जनसांख्यिकी
 Demonstrate—निरूपण करना, प्रमाण
 देना, निदर्शन करना
 Demonstration—निरूपण, प्रमाण,
 निदर्शन
 Demonstrative—निरूपणात्मक
 Demulsification—विपायसीकरण
 Denaturation—विकृतीकरण
 Denatured—विकृतीकृत

Dendrite—द्रुमाशम, द्रुमाकृति
 Dendritic—द्रुमाकृतिक
 Dendroid—वृक्षाम
 Dendron—वृक्षिका
 Denizen—निवासी
 Denominator—हर
 Dense—घन, सघन
 Density—घनत्व
 Dental—दंत
 Dentary—दंतकास्थि
 Dentate—खंदनी
 Dentide—दंतिका
 Dentition—दंत-विन्यास
 Denudation—अनाच्छादन
 Deodorant—गंधहारक निर्गंधीकारक
 Deodorisation—गंधहरण, निर्गंधी-
 करण
 Deodorised—निर्गंधीकृत
 Deodorizer—गंधहारक, निर्गंधीकारक
 Depasture—पशुचारण, चरना
 Dependent—परतंत्र, आश्रित
 Depletion—अवक्षय
 Depolarisation—विद्युवण
 Deposit—निक्षेप
 Deposited—निक्षेपित
 Deposition—निक्षेपण
 Depreciation—अवमूल्यन
 Depressed—अवनमित
 Depression—अवनमन
 Depressor—अवनमवी
 Deranged—अपविन्यस्त
 Derangement—अपविन्यास
 Derivative—व्युत्पन्न
 Derive—व्युत्पन्न करना
 Derived—व्युत्पन्न
 Dermal—त्वचीय, चर्मी
 Dermic—चर्म
 Descend—अवरोहण करना
 Descending—अवरोही
 Descension—अवरोहण
 Descent—अवरोहण, अवरोह
 Describe—वर्णन करना, खींचना,
 निर्माण करना
 Description—वर्णन, निर्माण
 Descriptive—वर्णनात्मक
 Desert—मरुस्थल, मरु
 Desiccation—शुष्कन, निर्जलीकरण
 Desiccator—जलशोषित्र
 Design (n.)—अभिकल्प, अभिकल्पना
 (v.) अभिकल्पना करना

Desilvering—विरजतन
 Desilverisation—विरजतीकरण
 Desmodent—कूटदंती
 Desolation—उजाड़, निर्जनता
 Desorption—विशोषण
 Destitution—अभावग्रस्तता
 Destruction—नाश, विनाश
 Destructive—विनाशी
 Deswelling—विशोथ, विशोथन
 Detached—अनासक्त
 Detailed—विस्तृत
 Detection—पहचान, अभिज्ञान, संसूचन
 Detector—संसूचक, अभिज्ञापक
 Detergent—अपमार्जक
 Determinant—सारणिक
 Determinate—परिमित, निर्धार्य
 Determination—निर्धारण
 Determine—निर्धारित करना
 Determined—निर्धारित
 Determiner—निर्धारक
 Determining—निर्धार्य
 Detonate—विस्फोटित करना
 Detonating—विस्फोट-प्रेरक
 Detonator—विस्फोट-प्रेरक
 Detrital—अपरदी
 Detritus—अपरद
 Deuteric—पश्चकालिक
 Devastation—उजड़ना
 Develope—व्यक्त करना, विकसित करना
 Developer—व्यक्तकारी, विकासकारी
 Development—विकास, व्यक्तीकरण, परिवर्धन
 Deviate (*adj.*) विचल
 Deviation—विचलन
 Device—युक्ति
 Devolution—अवक्रमण
 Dew—ओस
 Dextral—दक्षिणावर्त
 Diabetes—मधुमेह
 Diacidic—द्विआम्लिक
 Diaeoale—तृतीय निलय
 Diad—द्विक
 Diadelphous—द्विसंघी
 Diagnostic—निदानसूचक
 Diagonal—विकर्ण,
 Diagram—आरेख
 Diagrammatic—आरेखी
 Dialyse—अपोहन करना
 Dialysed—अपोहित

Dialyser—अपोहक
 Dialysing—अपोहक
 Dialysis—अपोहन
 Diamagnetic—प्रतिचुंबकीय
 Diamagnetism—प्रतिचुंबकत्व
 Diameter—व्यास
 Diametral—व्यासीय
 Diametrically—व्यासतः
 Diamond—हीरक, हीरा
 Diaphaneity—पारदर्शिता
 Diaphragm—मध्यपट, तनुपट
 Diapophysis—द्विविध
 Diasteme—दंतावकाश
 Diaster—द्वितारकी
 Diastole—अनुशिथिलन
 Diastrophism—पटल-विरूपण
 Diathemancy—ऊष्मा-पार्यता
 Diathermanous, Diathermic—ऊष्मा-पार्य
 Diathermometer—ऊष्मापार्यता मापी
 Diatomic—द्विपरमाणुक
 Diatrema—ज्वाला नलिका
 Dibasic—द्विक्षारकी
 Dichasial—युग्म-शाखिक
 Dichasium—युग्मशाखन
 Dichogamous—मिन्नकालपाकी
 Dichogamy—मिन्नकाल पक्वता
 Dichotomize—द्विभाजित करना
 Dichotomous—द्विभाजी
 Dichotomy—द्विभाजन
 Dichtoism—द्विवर्णता
 Dichroscope—द्विवर्णदर्शी
 Diclinous—एकलिंगी
 Dicondylic—द्विकंदी
 Dicotyledon, Dicolyledonous—द्विवीजपत्री
 Dictyostele—जालरंभ
 Dicyclic—द्विचक्रीय
 Didactylous—द्विअंगुलिक
 Didactyly—द्विअंगुलिता
 Didynamous—द्विदीर्घी
 Dielectric—परावैद्युत
 Difference—अंतर
 Differentiability—अवकलनीयता
 Differentiable—अवकलनीय
 Differential—विभेदक, भेददर्शी
 Differentiate—अवकलन करना
 Differentiated—अवकलित, विभेदित
 Differentiation—विभेदन
 Diffraction—विवर्तन

Diffuse (*v.*) विसारित करना, विकरित होना (*adj.*) विसारित, विसरित
 Diffused—विसरित, विसारित
 Diffusor—विसारक
 Diffusible—विसरणशील
 Diffusiometer—विसरणमापी, विसारमापी
 Diffusion—विसरण, विसार
 Deffusibility—विसरणशीलता
 Digametic—द्वियुग्मकी
 Digenetic—द्विपरपोषी
 Digestion—पाचन
 Digestive—पाचक
 Digit—अंगुलि, अंगुलिपर्व, अंक, व्यास का द्वादशांक
 Digitate—अंगुल्याकार
 Digitigrade—पादाग्रचारी; अंगुलिचारी
 Digitigradism—अंगुलिचारिता
 Dihedralangle—द्वितल कोण
 Dihexagonal—द्विषट्कोणीय
 Dihybrid—द्विसंकर
 Dilation—आयतन-प्रसार
 Dilatometer—प्रसारमापी
 Dilator—विस्फारिणी
 Diluent—तनुकारी
 Dilute (*adj.*) तनु
 (*v.*) तनु करना, तनु होना
 Diluted—तनुकृत
 Dilution—तनुकरण
 Dilutor—तनुकारी
 Dimension—विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, विमा, घात
 Dimensional—विमीय
 Dimer—द्वितय, द्वितयाणु
 Dimerous—द्वितयी
 Diminution—ह्रास
 Dimorph—द्वितीय रूप
 Dimorphic—द्विरूपी
 Dimorphism—द्विरूपता
 Dimorphous—द्विरूपी
 Dimpling—प्रगर्तन
 Dip—नमन, नति
 Dephyodont—द्विवारदंती
 Diplanetic—द्विचाली
 Diplanetism—द्विचालिता
 Diploid—द्विगुणित
 Diploidy—द्विगुणितमा
 Diplospondylous—द्विवत्त कशेरुकी
 Diplospondyly—द्विवृत्त कशेरुका
 Diplospory—द्विगुणित बीजाणुता

Diploxylic—द्विद्वारक
 Dipole—द्विध्रुव
 Direct—सरल, सीधा, ऋजु, प्रत्यक्ष, समक्ष
 Directed—दिष्ट
 Direction—दिशा, दिक्
 Directional—दिशात्मक
 Directive—दैशिक, दिशिक
 Director—नियामक
 Directrix—नियता
 Disassociation—असाहचर्य
 Disc—निम्ब, मंडलक, चक्रिका
 Discharge—विसर्जन
 Discoid, Discoidal—चक्रिकाम, चक्रिक
 Discontinuity—असांतत्य, भंग
 Discontinuous—असतत
 Discord, Discordance—विसंगति, विस्वर
 Discordant—विसंगत, विस्वर, अननुस्तरी
 Discourt—वट्टा, मितिकाटा
 Discoverer—शोधकर्ता, खोजकर्ता
 Discovery—शोध, खोज
 Discrepancy—विसंगति
 Discrete—विविक्त
 Discriminant—विविक्तकर
 Disease—रोग
 Disharmonic—विविधरूपी
 Disinfectant—रोगाणुनाशी, संक्रमण-हारी
 Disinfection—संक्रमण-हरण, रोगाणु-नाशन
 Disinfestation—पीड़न हरण
 Disintegrating—विघटन
 Disintegration—विघटन, कणीकरण
 Disjunction—वियोजन
 Disjunctive—वियोजक
 Dislocation—स्थान-भ्रंश
 Disorganise—विसंगठित होना
 Dispensal—प्रकीर्णन, प्रक्षेपन
 Dispersed—प्रकीर्ण, परिक्षेपित
 Dispersion—परिक्षेपन, प्रकीर्णन
 Dispersive—वर्ण-विक्षेपक
 Displace—विस्थापित
 Displacement—विस्थापन
 Disposition—स्थिति, अवस्था
 Disruptive—विदारि
 Dissect—विच्छेदन करना
 Dissected—विच्छेदित
 Dissecting—विच्छेदन

Dissection—विच्छेदन
 Disseminated—विकीर्ण
 Dissemination—विकीर्णन
 Dissepiment—अंडाशय-पट, भित्तियोजिका
 Dissimilar—असमरूप, असमान
 Dissipation—क्षय, विसरण
 Dissipative—क्षयकारी
 Dissociated—वियोजित
 Dissociating—वियोजी
 Dissociation—वियोजन
 Dissolution—विलयन
 Dissolve—घुलना
 Dissolved—विघटित, घुला हुआ
 Dissonance—असंवादिता
 Dissonant—असंवादी
 Distal—दूरस्थ
 Distance—दूरी
 Distichous—द्विपंक्ति
 Distil—आसवन करना
 Distillate—आसुत
 Distillation—आसवन
 Distilled—आसवित आसुत,
 Distillery—आसवनी, मद्यनिर्माणशाला
 Distilling—आसवन
 Distinct—भिन्न, अलग, सुस्पष्ट, सुव्यक्त
 Distinction—विभेद
 Distorted—विकृत
 Distortion—विकृति, विरूपण
 Distributary—जलवितरिका
 Distributed—वितरित
 Distribution—वितरण
 Distributive—वितरित
 Disturbance—विक्षोभ
 Disturbed—विक्षुब्ध
 Ditetragonal—द्विचतुष्कोणी
 Diurnal—आह्निक, दैनिक
 Divalent—द्विसंयोजक
 Divariant—द्विचर
 Divaricator—अनावरक
 Diverge—अपसारित करना या होना
 Divergence—अपसरण, अपसारिता
 Divergent—अपसारी
 Diverging—अपसारी
 Diversion—दिक्परिवर्तन
 Divide—विभाजित करना, भाग देना, बाँटना।
 Divided—विभाजित
 Dividend—भाज्य, लाभांश
 Diving cell—निमज्जन-कोष्ठ

Divisibility—भाज्यता, विभाज्यता
 Divisible—भाज्य, विभाज्य
 Division—भाग, प्रभाग
 Divisor—भाजक
 Dodecagon—द्वादशभुज
 Dodecahedral—द्वादशफलकी
 Dodecahedron—द्वादशफलक
 Dodecatomary—राशि
 Doliocephal—दीर्घशिरस्क
 Doliocephalic—दीर्घशिरस्क
 Doliform—डोलकाकार
 Doliomorphic—मुक्तघटकीय
 Doliomorphism—मुक्त घटकत्व
 Dolphin—सूँस
 Domain—प्रभाव क्षेत्र
 Dome—डोम, गुंबद
 Domestic—आंतरिक, देशी
 Domestication—पालतू बनाना
 Dominance—प्रभाविता, प्रमुखता
 Dominant—प्रभावी, प्रमुख
 Dore Silver—स्वर्णयुक्त चाँदी
 Dormancy—प्रसुप्ति
 Dormant—प्रसुप्त
 Dorsal—अपाक्ष, पृष्ठीय
 Dorsifixed—पृष्ठ-लग्न
 Dorsiventral—पृष्ठाधरी
 Dorso-lateral—पृष्ठाधारी
 Dorso-ventral—अधरापृष्ठी
 Dorsum—पृष्ठ
 Dose—मात्रा, खुराक
 Dot—विन्दु
 Dotted—विन्दुकित, बूँददार, छिटकी
 Double—द्विगुण, युग्म, द्विक, उभय, द्विधा, दो
 Doublet—द्विक
 Down—नत
 Downward—अधोमुखी
 Downy—मृदुरोमिल
 Drag—कर्षण
 Dagnet—महाजाल
 Drain—नाली, अपवाहिका
 Drainage—अपवाहत्र
 Dressing—प्रसाधन
 Drit—गति
 Drilling—छेद करना, वेधन, वेध
 Driven—चालित
 Driver—चालक
 Drizzle—फुहार
 Drone—पुंमधुप, नर मोरा

Drop—बूंद, विन्दु
 Droplet—विन्दुक, छोटा बूंद सूक्ष्म विन्दु या बूंद
 Dropper—ड्रॉपर, विन्दुपाती
 Drought—सूखा
 Drowned—निमज्जित, मग्न, डूबा हुआ
 Drug—दवा, औषध
 Dry—शुष्क, सूखा, निर्जल, सूखी
 Drying—सुखाना, शुष्कन, शुष्कीकरण, जल शोषण
 Dual—द्वै, दोहरा
 Duct—वाहिनी
 Ductile—तन्य
 Ductility—तन्यता
 Dull—मंद, सुस्त
 Duopoly—द्वयाधिकार
 Durability—दीर्घस्थायित्व
 Duration—अवधि
 Dusk—गोधूलि, सांझ
 Dust—धूल, धूलि
 Duster—प्रकीर्णक, झाड़न
 Dusting—प्रकीर्णन, झाड़वा
 Dwarf—वामन, वीना
 Dwarfism—वामनता, वीनापन
 Dyad—द्वयक, द्विक
 Dyadic—द्वयकीय
 Dye—रंजक
 Dyeing—रंजन, रँगना
 Dynamic—वेग, गतिक
 Dynamical—गतिकीय
 Dynamically—गतिकीयतः
 Dynamics—गति-विज्ञान

E

Ear—बाल, कर्ण, कान
 Earth—पृथ्वी, भूमि, मृत्तिका, मिट्टी
 Earthquake—भूचाल, भूकंप, भूडोल
 Earthworm—केंचुआ
 East—प्राची, पूर्व
 Ebb—भाटा
 Ebullition—बबथन, उबाल
 Eccentric—उत्केन्द्र
 Eccentricity—उत्केन्द्रता
 Ecesis—आस्थापन
 Echinate—कंठकी
 Echo—प्रतिध्वनि
 Eclipse—ग्रहण
 Eclipsed—ग्रहण-ग्रस्त, ग्रस्त, ग्रसा हुआ
 Ecliptic—क्रांतिवृत्त

Ecological—परिस्थितिक
 Ecologist—परिस्थिति-विज्ञानी
 Ecology—परिस्थितिकी, परिस्थिति-विज्ञान
 Economic—आर्थिक
 Economical—मितव्ययी किफायती
 Ecotype—परिस्थितिक प्ररूप
 Ectocyst—बाह्य या बाहरी पुटिका या पुटी
 Ectocyst—बाह्यत्वचा, बाहरी चमड़ा
 Ectoparasite—बाह्य परजीवी
 Edaphic—मृदीय
 Eddy—मँवर
 Edge—कोर, किनारा
 Eel—ईल, सर्पमीन
 Effect—प्रभाव
 Effective—प्रभावी, कार्यकारी
 Efferent—अपवाही
 Effervesce—बुदबुदाना
 Efficiency—दक्षता
 Effloresce—उत्फुल्ल या लोनी लगना
 Efflorescence—उत्फुल्लन, लोनी
 Efflorescent—उत्फुल्ल, लोनिया
 Effluent—बहिप्रवाही, बहिःस्राव
 Efflux—आयास
 Effort—आयास
 Effusion—निःसरण
 Effusive—निःसृत
 Egestion—बहिःक्षेपण
 Egg—अंडा, अंड
 Egress—मोचन
 Egret—बगुला
 Ejaculation—स्खलन
 Ejection—निष्कासन, निकालना
 Elacometer—तेलमापी
 Elaieplast—तैलद लवक
 Elasmobranch—उपास्थिमीन
 Elastic—प्रत्यास्थ
 Elastica—प्रत्यास्थिका
 Elasticity—प्रत्यास्थता
 Electric—विद्युत्, विजली
 Electrical—वैद्युत्
 Electricity—विद्युत्
 Electrification—विद्युतीकरण
 Electrolysis—वैद्युत् अपघटन
 Electrolyte—विद्युत् अपघट्य
 Electrolytic—विद्युत् अपघटनी
 Electro—विद्युत्
 Electro magnetism—विद्युत्-चुम्बकत्व
 Electro-mechanical—विद्युत्-यांत्रिकी

Electro-meter—विद्युत्मापी
 Electrometric—विद्युत्मापी
 Electrometry—विद्युत्मिति
 Electron—इलक्ट्रॉन
 Electro-negative—ऋण विद्युती
 Electroplate—विजली से मुलम्मा करना
 Electro-positive—धनविद्युती
 Electroscope—विद्युत्दर्शी
 Electrostatic—स्थिर वैद्युत्
 Electrostatics—स्थिर विद्युतिकी
 Electrotyping—वैद्युत्, मुद्रण, विजली छपाई
 Electrovalency—वैद्युत् संयोजकता
 Electrovalent—वैद्युत् संयोजक
 Element—तत्व, मूलतत्व, मूल अवयव
 Elementary—तात्त्विक मौलिक प्रारंभिक
 Elevated—उन्नत, उत्थित
 Elevation—उत्थान, उत्थापन, उन्नयन, उच्चता, ऊँचाई, उन्नतांश ।
 Elevator—उत्थापक
 Eliminant—विलोपन फल
 Eliminate—विलुप्त करना, विलोपन या गायब करना
 Elimination—विलोपन
 Elixir—अल अक्सीर, अमृत
 Ellipse—दीर्घवृत्त
 Ellipsoid—दीर्घवृत्तज
 Elliptic—दीर्घवृत्तीय
 Elliptical—दीर्घवृत्तीय
 Elongate—लंबा
 Elongation—दीर्घीकरण, लंबा बनाना
 Eluvial—अनूढ
 Eluvium—अनूढक
 Elytrum—पक्षवर्ष
 Emanating—प्रसर्जन
 Emanation—प्रसर्जन
 Embankment—तटबंध, बाँध
 Embayment—लघुखाड़ी
 Embedded—अंतःस्थापित
 Embedding—अंतःस्थापन
 Embryo—भ्रूण
 Embryogeny—भ्रूणोद्भव
 Embryological—भ्रूण-विज्ञानी
 Embrology—भ्रूण-विज्ञान
 Embryonio—भ्रूणीय प्रारंभिक
 Emerald—पन्ना, मरकत, जमुरद
 Emigrant—उत्प्रवासी
 Emigration—उत्प्रवास, उत्प्रवासन
 Emission—उत्सर्जन

Emissive—उत्सर्जक, उत्सर्जन
 Emissivity—उत्सर्जकता
 Emittance—उत्सर्जन
 Emitted—उत्सर्जित
 Emitter—उत्सर्जक
 Empirical—आनुभाविक
 Emplacement—अभिस्थापन
 Employee—कर्मचारी, मुलाजिम
 Employer—नियोक्ता, मालिक
 Emulification—पायसीकरण
 Emulsifier—पायसीकारक
 Emulsify—पायस बनाना
 Emulsion—पायस
 Emulsoid—पायसाम
 Enamel—इनैमल करना, कलई करना
 Enantiomorph—प्रतिविव रूप
 Enantiomorphic—प्रतिविवरूपी
 Enantiomorphism—प्रतिविवरूपिता
 Enantiomorphy—प्रतिविवरूपिता
 Enantio-tropic—उत्क्रमरूपिता
 Enation—उद्वर्धन, उद्वर्ध
 Encampment—शीवैर बनाना, पड़ाव डालना
 Enceinte—प्राकारी नगर
 Encephalocele—प्रमस्तिष्कगुहा
 Enclave—विदेशी
 Enclosed—परिवद्ध
 Enclosure—बाड़ा, अहाता
 Encrustation—पपड़ी, जमना, पपड़ी, पर्पटी
 Encystation—पुटी भवन
 Encystment—पुटी भवन
 End—सिरा, छोर, अंत
 Endarch—मध्यादिदास्क
 Endemic—विशेषक्षेत्री
 Endemism—विशेषक्षेत्रिग
 Endite—अंतःपालि
 Endobiotic—जीवांतवासी
 Endocardium—अंतःहृद्स्तर
 Endocarp—अंतः फलभित्ति
 Endocrine—अंतःस्रावी
 Endocrinology—अंतःस्राव विज्ञान
 Endocyst—अंतःपुटिका
 Endoderm—अंतस्त्वचा, अंतश्चर्म
 Endodermis—अंतस्त्वचा अंतश्चर्म
 Endoergic—ऊर्जाशोपी
 Endogen—अंतर्जात
 Endogenous—अंतर्जात
 Endolymph—अंतर्लसिका
 Endometrium—गर्भाशय, अंतःस्तर

Endomixis—अंतःमिश्रण
 Endo-parasite—अंतःपरजीवी
 Endophyte—अंतःपादपी
 Endoplasm—अंतःप्रद्रव्य
 Endopodite—अंतपादांग
 Endosarc—अंतःप्रद्रव्य
 Endosiphon—अंतर्नली
 Endo-Skeleton—अंत-कंकाल
 Endosome—अंतःकाय
 Endosomosis—अंतःपरासरण
 Endosperm—भ्रूणपोष
 Endosporium—बीजाणु अंतःचोल
 Endosteum—अंतःअस्थिछद
 Endostome—अंतःबीजाणु द्वार
 Endothelium—अंतःस्तर
 Endothermic—ऊष्माशोपी
 Endozoic—अंतःजंतुक
 Enechelon—सोपानी
 Energetics—ऊर्जा-विज्ञान
 Energise—ऊर्जित करना
 Energization—ऊर्जायन
 Energy—ऊर्जा
 Enervating—शक्ति ह्रासक
 Englacial—अतर्हिमानी
 Engulf—परिग्रहण करना
 Enlargement—विवर्धन
 Enquiry—अन्वेषण, खोज, जाँच
 Enrichment—समृद्धि
 Ensheathing—परिच्छादक
 Ensiform—खड्गाकार, खड्ग या तलवार-सा
 Enteric—आंत्र
 Enterocoele—आंत्र गुहा
 Enteron—आंत्र, आंत
 Entire—अछिन्न कोर, समग्र, समचा
 Entocuneiform—अंतःकीलिका
 Entoglossal—अंतःजिह्वा
 Entomogenous—कीटजीवी
 Entomology—कीट विज्ञान
 Entomophagous—कीटाहारी
 Entomophilous—कीटपरागित
 Entomophily—कीट परागण
 Entrance—प्रवेश
 Enumeration—गणन, गिनना
 Enumerator—गणनाकार
 Enunciate—प्रतिज्ञापित करना
 Enunciation—प्रतिज्ञापन
 Envelope (n.) अन्वालोप, आवरण (v.) आवत करना
 Environment—वातावरण, परिस्थिति

Eolian—वायूद, वायुकृत
 Ephemeral—अल्पकालिक
 Ephemeris—पंचांग
 Epibiotic—जीवोपरवासी
 Epiblast—अधिकोरक
 Epiblema—मूलीय त्वचा
 Epicardium—अधिहृद्स्वर
 Epicentral—अधिकेन्द्री
 Epicentre—अधिकेन्द्र
 Epicentrum—अधिकेन्द्र
 Epicoele—अनुमस्तिष्क गुहा
 Epicondyle—अधि अस्थि कंद
 Epicontinental—अधिमहाद्वीपीय
 Epicotyl—बीजपत्रोपरिक
 Epicranial—अधिकपाल
 Epicranium—अधिकपाल
 Epicuticula—अधित्वक
 Epicycle—अधिचक्र
 Epicycloid—अधिचक्रज
 Epidemic—महामारी
 Epiderm—बाह्यत्वचा
 Epidermal—अधिचर्म
 Epidermis—बाह्यत्वचा, अधिचर्म
 Epigastric—अधिजठर
 Epigeal—भूम्युपरिक
 Epigean—भूम्युपरिक
 Epigenesis—पश्यजनन
 Epigenetic—पश्यजात
 Epinasty—अधोकुंचन
 Epineural—अधितंत्रिक
 Epi-otic—अधिकर्णिक
 Epipharynx—अधिग्रसनी
 Epiphyllous—पारिदल लगन
 Epiphysis—अधिप्रवर्ध
 Epiphyte—अधिपादप
 Epipleura—अधिपार्श्वक
 Epipodium—अधिपाद
 Epipterygoid—अधिग्र्यांगिका
 Epipubis—अधिग्रंधनास्थि
 Episcopo—अपारचित्रदर्शी
 Episematic—अधिवोधक
 Episternum—अधिउरोस्थि
 Epistrophecos—अक्षक, अक्षककशेरक
 Epitheca—अधिप्रावरक
 Epithelial, Epithelium—उ
 Epithermal zone—अल्पतापीपकल
 Epithet—विशेषक मंडल
 Epixylous—काष्ठोपरिक
 Epizoic—अधिजंतुक
 Epizone—उपरिमंडल

Epoch—युग
 Equal—समान, बराबर, सम, तुल्य
 Equality—समता, समिका
 Equate—समीकरण करना
 Equation—समीकरण
 Equator—विषुवत् वृत्त, निरक्ष
 Equatorial—विषुवतीय, निरक्षीय, मध्यवर्ती
 Equiangular—समानकोणिक
 Equiconcave—समावतल
 Equiconjugate—समसंयुग्मी
 Equiconvex—समसमोत्तल
 Equicross—सबचानुपाती
 Equidistant—समदूरस्थ
 Equigranular—वामकणिक
 Equilateral—समभु
 Equilibrant—संतुलक
 Equilibrium—साम्यावस्था, साम्य, संतुलन
 Equimolecular—सम-अणुक
 Equimomental—सम-आघूर्ण
 Equinoctial—विषुव
 Equinox—विषुव
 Equipartition—समविभाजन
 Equiplanation—सपाटीकरण
 Equipment—उपस्कर
 Equipotential—सम-विभव
 Equivalence—तुल्यता
 Equivalent—(adj.) तुल्य तुल्यभार;
 (n.) तुल्यांक
 Equivalve—सम कपाट
 Era—महाकल्प, संवत्
 Eradicant—उन्मूलक
 Eradication—उन्मूलन
 Erect—ऊर्ध्व, ऊर्ध्वशीर्षी
 Erection—उद्घर्षण
 Eriometer—तंतुमापी
 Erosion—अपरदन
 Erosive—अपरदनकारी
 Erratic—अनियमित
 Error—त्रुटि, भूल, गलती
 Erumpent—उद्मेदी
 Erupted—उद्गीर्ण
 Eruption—उद्गार, उद्मेदन
 Eruptive—उद्गारी
 Erythrisim—अतिरक्तता
 Erythrocyte—लाल रधिर कणिका
 Escape—पलायन करना, बाहर निकलना
 Escapment—कगार

Escribe—बहिर्वृत्त खींचन
 Essence—सार, इत्र, सत्
 Estimate—(n.)—आकलन
 (v.) आकलन करना, आंकना, कूतना
 Estimated—आकलित
 Estimation—आकलन
 Estipulate—अननुपूर्णी
 Estrus—कामोन्माद, मदचक्र
 Estuarine—ज्वारनदमुखी
 Estuary—ज्वारनदमुख, बेला संगम
 Etaerio—पुंज
 Etched—निक्षारित
 Etching—निक्षारण, निखारना
 Ether—ईश्वर
 Ethereal—ईश्वरी
 Ethnic—मानव जातीय
 Ethnography—मानव जातिवर्णना
 Ethnology—मानव जाति विज्ञान
 Ethology—जीव परिस्थितिकी
 Etiolated—पांडुरित
 Etiolation—पांडुरता
 Eudiometry—गैस आयतन मिति
 Eugenic—सुजननिक
 Eugenics—सुजननिकी, सुजनन विज्ञान
 Euhedral—पूर्णफलकी
 Euryphagous—विविधहारी
 Eustatic—सुस्थितिक
 Eustatism—सुस्थितिकता
 Eutectic—गलनक्रांतिक
 Euthenic—सुजीवनिक
 Evacuate—रिक्त करना
 Evacuated—निर्वातित, रिक्तीकृत
 Evacuation—निर्वातन, रिक्तीकरण
 Evaginated—बहिर्वलित
 Evagination—बहिर्वलन
 Evaluate—मान निकालना
 Evaluation—मानांकन, मूल्यांकन
 Evanescent—क्षणस्थायी, क्षणजीवी
 Evaporate—वाष्पित करना, वाष्पित होना
 Evaporated—वाष्पित
 Evaporation—वाष्पन
 Evaporative—वाष्पनिक
 Evaporator—वाष्पित्र
 Evaporimeter—वाष्पनमापी
 Even—सम
 Evenly—समविकीर्ण
 Everglade—दलदल
 Evergreen—सदाहरित, नदापर्णी

Eversible Sac—शर कोश
 Event—घटना
 Evidence—प्रमाण, साक्ष्य
 Evident—प्रत्यक्ष
 Evolute—केन्द्रज
 Evolution—विकास
 Evolutionary—विकासीय
 Exact—यथातथ, यथार्थ, विल्कुल ठीक
 Exactness—यथातथ्य
 Examination—परीक्षण, जांच, परीक्षा
 Example—उदाहरण
 Ex-centre—बहिष्केन्द्र
 Excentric—उत्केन्द्र
 Exchange—विनिमय
 Excitation—उत्तेजन, ऊर्जन
 Excite—उत्तेजित करना, ऊर्जित करना
 Excited—उत्तेजित
 Exciting—उत्तेजक
 Exclave—बहिःक्षेत्र
 Exclusion—अपवर्जन
 Exconjugants—पूर्वसंयुग्मी
 Excrescence—अपवृद्धि
 Excreta—उत्सर्ग
 Excretion—उत्सर्जन, उत्सर्ग
 Excretory—उत्सर्जन
 Excurrent—बहिर्वर्धी, बहिर्वाही
 Excursion—अभियान
 Exercise—अभ्यास
 Exfoliate—अपिशलित होना, अपपत्रित होना
 Exfoliation—अपपत्रण
 Exhalation—उच्छ्वसन
 Exhalent—उच्छ्वासी, अपवाही
 Exhaust—(v.) रचन करना, निर्वात करना, समाप्त करना
 (n.) रचक, निर्वातक
 Exhaustion—निर्वातन, रचन, समापन
 Exine—बाह्यचोल
 Exit—निर्गम
 Exite—बहिर्पाल
 Exocarp—बाह्यफल-मिति
 Exocoelum—बाह्य देह गुहा
 Exocrine—बहिःखायी
 Exoergic—ऊर्जाउन्मोची
 Exogene—बहिर्जात
 Exogenetic Exogenous—बहिर्जात
 Exopodite—बहिःपादांग
 Exoskeleton—बहिःकंकाल
 Exosmosis—बहिःपरादाय

Exostome—बहिःबीजाङ्घ्रि
 Exothermal—ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा-
 उन्मोची
 Exotic—विदेशी, विदेशज, विदेशागत
 Expand—प्रसार करना
 Expanded—प्रसारित
 Expanse—विस्तार
 Expansion—प्रसार, प्रसरण
 Expansivity—प्रसरणीयता
 Expedition—खोज यात्रा
 Experiment—प्रयोग
 Experimental—प्रायोगिक, प्रयोगात्मक
 Experimenter—प्रयोगकर्ता
 Expiration—निःश्वसन, साँस छोड़ना
 Explanation—व्याख्या, स्पष्टीकरण
 Explicit—स्पष्ट
 Explode—विस्फोट करना या होना
 Exploding—विस्फोटी
 Exploitation—शोषण, उपयोग
 Exploration—अन्वेषण, खोज
 Explore—अन्वेषण करना, खोज करना
 Explorer—अन्वेषक
 Explosion—विस्फोटन, विस्फोट
 Explosive—विस्फोटक
 Exponent—घातांक
 Exponential—चरघातांकी
 Export—निर्यात
 Exporter—निर्यातक
 Exposure—अनावरण, प्रभावने
 Expression—व्यंजक
 Expulsion—बहिष्करण, बहिष्कार
 Exsert—उद्बर्ध
 Exserted—निःसृत, बाहर निकला हुआ
 Exsolution—अपविलयन
 Ex-stipulate—अननुषर्णी
 Extended—विस्तृत
 Extensibility—वितान्यता
 Extensible—वितान्य
 Extension—विस्तार
 Extensive—विस्तीर्ण
 Extensor—प्रसारिणी
 Extent—विस्तार, सीमा
 Exterior—ब्राह्म, बहिर्भाग
 External—बाह्य
 Externally—बाह्यतः
 Extinct—विलुप्त
 Extinction—विलोप
 Extract-(*n.*) निचोड़, निष्कर्ष, सार
 (*v.*) सार निकालना, निष्कर्षण करना
 Extraction—निष्कर्षण, सार, निचोड़

Extraordinary—असामान्य, असा-
 धारण
 Extrapolation—बहिर्वेशन
 Extreme—(*adj.*) चरम; (*n.*)
 पराकाष्ठा
 Extremity—अग्रांडा, छोर, सिरा
 Extrinsic—बाह्य
 Extrorse—बहिर्मुखी
 Extrude—बहिर्वेधन करना
 Extruded—बहिर्वेधित
 Extrusion—बहिर्वेधन
 Extrusive—बहिर्वेधी
 Exudate-(*n.*) परेसान, निःस्राव
 (*v.*) निःस्रावण होना, रिसना
 Exudation—रिसन, रिसाव, प्रस्वे-
 दन, निःस्रावण
 Exude-(*n.*) रिसाव, निःस्राव
 (*v.*) रिसना, निःस्रावण होना
 Exuviae—निर्माक
 Exuvial—निर्माकी
 Eye—नेत्र, आँख
 Eyepiece—नेत्रिका

F

Fabella—शिम्विका
 Fabrication—रचना
 Face—फलक, पार्श्व, पहल, चेहरा,
 आनन
 -Value—अंकित मूल्य
 Facet—फलाकेका, फलक
 Faceted—फलाकित
 Facial—आननी
 Facies—संलक्षणी
 Facing—लेप
 Fact—तथ्य
 Factor—घटक, उपादान, कारक
 Factorial—क्रमगुणित
 Factorisation—गुणन-खंडन
 Factorise—गुणनखंड करना
 Facultative—विकल्पी
 Faeces—विष्ठा
 Faint—मंद, हलका
 Faeco—बंजर
 Falcate—दात्राकार
 Falciform—हँसियाकार
 Fallacy—हेत्वाभास
 Fallow—परती, पालेहर,
 False—आभासी, मिथ्या, कूट,
 Family—कुल, कुटुंब, परिवार

Fang—विषदंत
 Farming—कृषि, खेती
 Fasciated—संपट्टित
 Fasciation—संपट्टन
 Fascicle—पूलिका, गुच्छ
 Fasciculate—पूलिकित
 Fastigate—कूचशाखित
 Fat—वसा, चर्बी
 Fatty—वसीय, चर्बीवाला
 Fault—दोष
 Faulted—भ्रंशित
 Faulting—भ्रंशन
 Faulty—संदोष
 Fauna—जंतु या प्राणी समूह
 Favoid—मधुकोशाम
 Feather—पिच्छ, पर
 Feature—लक्षण
 Febricide—ज्वरनाशी
 Fecundity—बहुप्रजता, जननशक्ति
 Federation—राजसंघ
 Feeble—क्षीण, तनु
 Feed—भरण
 Femoral—ऊरु
 Fenestra (Fenster)—गवाक्ष
 Fennel—सौंफ
 Ferment-(*n.*) किण्व; (*v.*) किण्वन
 करना, किण्वित करना
 Fermentation—किण्वन
 Fermented—किण्वित
 Ferro—लोह
 Ferro-alloy—लोह मिश्रधातु
 Ferruginous—लोहमय
 Fertility—उर्वरता
 Fertilization—निषेचन
 Fertilized—निषेचित
 Fertilizer—उर्वरक
 Fertilizing—उर्वरकारी, उर्वरता-
 कारी
 Fibre—तंतु, सूत्र, रेशा
 Fibril—तंतुक
 Fibrous—रेशेदार
 Fibula—बहिर्जघिका
 Fictitious—कल्पित
 Fiducial—विश्वासाय
 Field—क्षेत्र, खेत, स्थान
 Figure—अंक
 Filament—तंतु
 File-(*n.*) रेती; (*v.*) रेतना
 Filial—संतानीय, पुत्रीचित
 Filiform—तंतुरूप

Filings—रेतन
 Filler—पूरक
 Film—परत
 Filter—(५.) पुनिस्पंदक, छन्ना;
 (५.) छानना, निःस्पंदन करना
 Filtrate—निस्पंद
 Filtration—निस्पंदन, छनाई
 Fimbria—झालर
 Fimbriate—झालरदार
 Final—अंतिम
 Fine—परिष्कृत, पतला, सूक्ष्म, महीन,
 चारीक
 Finished—परिष्कृत
 Finishing—परिष्कृति
 Finite—परिमित, सांत
 Fireproof—अग्निसह, अदाह्य
 Firestone—चकमक
 Fireworks—आतिशवाजी
 Firth—तंग खाड़ी
 Fish—मछली, मीन, मत्स्य
 Fishery—मत्स्य उद्योग, मत्स्य क्षेत्र
 Fissile—विदल्य
 Fissility—विदल्यता
 Fission—विखंडन
 Fissionable—विखंडनीय
 Fissure—विदर, दरार
 Fistular—नलीदार
 Fitting—आसंजन
 Fixation—योगिकीकरण
 Fixative—स्थायीकार
 Fixed—योगिकीकृत
 Fixer—स्थायीकर
 Flaccid—श्लथ, ढीला
 Flagellate, Flagellated—कशाभिक
 Flake—पत्रक
 Flaky—पत्रकी
 Flame—ज्वाला
 Flank—माश्वं
 Flaser—रेखित
 Flash—दमक, क्षणदीप्ति, आकस्मिक
 प्रवाह
 Flat—सपाट, समतल, चपटा
 Fleet—वेड़ा
 Fleshly—मांसल, नूदेशर
 Flexibility—नम्यता, लचक, लचीलापन
 Flexible—नम्य, लचीला, लचकदार
 Flexuous—टेंढामेड़ा
 Flexure—आनमन
 Flicker—रफुरण
 Flint—च तमक

Float (n.)—प्लव
 Floation—प्लवन
 Flocculation—ऊर्णन
 Floccule—ऊर्णिका
 Flocculent—ऊर्णिक
 Flocculise—ऊर्णित करना
 Flocculus—ऊर्णिका
 Flora—पेड़-पौधे, वनस्पति-समूह
 Floret—पुष्पक
 Floriferous—पुष्पित
 Floristic—पादपी
 Floscelle—पुष्पाभिका
 Flour—चूर्ण
 Flow—प्रवाह
 Flower—पुष्प, फूल
 Fluctuation—घट-बढ़, उतार-चढ़ाव
 Fluid—तरल
 Fluidimeter—तरलतामापी
 Fluidity—तरलता
 Fluke—पर्णाभकृमि
 Fluorescence—प्रतिदीप्ति
 Fluorescent—प्रतिदीप्तिशील
 Fluvial, Fluviate—नदीय
 Fluvioglacial—सरिता हिमी
 Fluviraption—नदीय अपवहन
 Flux—अभिवाह
 Focal—नामीय, गनाभि
 Focus—नामि
 Foetal—गर्भ-
 Foetus—गर्भ
 Fog—कुहरा
 Foil—पत्ती, पर्णिका
 Fold—वलन
 Folded—वलित
 Folder—पुटक
 Foliaceous—पर्णिल, पर्णाकार, शलिकत
 Foliate—पर्णिल
 Foliated—शलिकत
 Foliation—पत्रण, शलिकन
 Follicolous—पर्णवासी, पत्रवासी
 Foliose—पर्णिल
 Follicle—गर्त, कूप, पुटक
 Forage—चारा
 Foramen, Foramina—शंघ्र
 Forbidden—वर्जित
 Force—बल
 Forebrain—अग्र-मस्तिष्क
 Forecast—पूर्वानुमान
 Foregut, Foreintestinal—अग्रंत
 Foreshore—तटदाच

Form—रूप, आकृति
 Formation—निर्माण, रचना, ममावान,
 शैल-समूह
 Formula—सूत्र
 Fortification—किलेबंदी
 Fortress—दुर्ग
 Fossa—खात
 Fossil—फॉसिल, जीवाश्म
 Fossula—घातिका
 Fovea—खात
 Fraction—भिन्न, प्रमाज
 Fractional—भिन्नात्मक, प्रमाजी.
 प्रमाजित
 Fractionate—प्रमाजन करना
 Fractionation—प्रमाजन
 Fractionator—प्रमाजक
 Fragile—भंगुर
 Fragment—खंड, टुकड़ा
 Fragmental—खंडमय
 Fragmentation—खंडन
 Frame—सांचा
 Free—अलग्न, मुक्त
 Freeze—(५.) जमना, जमाना
 Freezing point—हिमांक
 Frequency—आवृत्ति, वारंवारता
 Frescoe—भित्तिचित्र
 Fresh water—अनदण जल
 Friable—सुचूर्ण्य, चूर्णशील
 Friction—घर्षण
 Frictional—घर्षणी
 Frontier—सीमांत क्षेत्र, सीमा
 Frontoclypeus—अग्रमुखपानि
 Frontogenesis—वाताग्र-उत्पत्ति
 Frost—नुषार, पाना
 Froth—साग
 Frothy—सागदार
 Fructification—फलन
 Fructose—फलजर्ण
 Frugivorous—फलभक्षी
 Frustum—टिप्पक
 Fruticulous—शाकसी
 Fruticore—शुक्ति
 Fungaceous—आमृषासी
 Fulera—अनंद जन्म
 Fulerum—आनंद
 Fumigole—आमृषण
 Furne—पत्र
 Furbine—सुन्दर, पत्र
 Furrow—सुन्दर, पत्र
 Furbur—सुन्दर, पत्र
 Furbur—सुन्दर, पत्र

Fuming—सघूम, घुमायमान
 Function—कार्य, फलन
 Functional—क्रियात्मक, कर्मोपलक्षी,
 फलनिक
 Fundamental—मूल, मौलिक
 Fungicide—कवकनाशी
 Fungus (Fungi)—कवक
 Funicle, Funiculus—बीजांड-वंत
 Funnel—कीप
 Furnace—भट्टी
 Fuse—(v). गलना, गलाना, मिलना,
 मिलाना, संगलित होना या करना,
 फ्यूज होना
 Fusible—गलनीय
 Fusiform—तक्रुरूप, तक्रुआनुमा
 Fusion—गलन, संगलन, संलयन,
 संयोजन, संयुक्ति

G

Galactic—गांगेय
 Galactometer—दुग्धमापी, दूधमापी
 Galaxy—आकाशगंगा
 Gale—झंझा
 Gall—पिटिका
 Gall bladder—पित्ताशय
 Gallon—गैलन
 Galvanise—जस्ता चढ़ाना
 Galvanised—जस्तेदार
 Galvanometer—घारामापी
 Galvanoscope—घारादर्शी
 Gametic—युग्मकी
 Gametocyte—युग्मक जनक
 Gametogenesis—युग्मकजनन
 Gametophyte—युग्मकोद्भिद
 Gamopetalous—संयुक्तदली
 Gamophyllous—संयुक्त परिदली
 Gamosepalous—संयुक्त बाह्यदली
 Ganglion—गुच्छिका
 Gangue—आघात्री
 Gap—दर्रा, विदर, अंतराल
 Gaping—विस्फारण
 Garlic—लहसुन, लशुन
 Gas—गैस
 Gaseous—गसीय
 Gasification—गैसीकरण
 Gasify—गैसीभूत होना या करना
 Gasolin—पेट्रोल
 Gasometer—गैसमापी
 Gastral—जठरीय

Gastric—जठरीय, आमाशयी
 Gastrocutaneous pore—जठर-
 त्वचारंध्र
 Gastrodermis—जठर-चर्म
 Gastrointestinal—जठरांत्र
 Gastropore—जठर-नाल
 Gauge—प्रमापी, गेज
 Gauze—जाली
 Geanticline—भूअपनति
 Gelatine—जिलेटिन
 Gelatinous—जिलेटिनी, श्लेषी
 Geneological—वंश-
 Genera—वंश
 General—व्यापक, सामान्य
 Generate—जनन करना
 Generating—जनक
 Generation—पीढ़ी, उत्पादन, जनन
 Generator—जनक, जनित्र
 Genesis—उत्पत्ति
 Genetic—आनुवंशिक
 Genetics—आनुवंशिक विज्ञान, आनु-
 वंशिकी
 Geniculate—जानुनत
 Genital—जननिक, जननांगी
 Genitalia, Genitals—जननेन्द्रिय
 Genotype—समजीनी
 Genu—जानुका
 Genus—वंश
 Geoanticline—भूअपनति
 Geobiont—भूमिवासी
 Geobiotic—भूजीवीय
 Geocarpic—भूमिफलनी
 Geocentric—भूकेन्द्रिक, भूकेन्द्रीय
 Geochemist—भूसायनज्ञ
 Geochemistry—भूसायन
 Geocratic—अधिकस्थली
 Geodesic—अल्पांतरी
 Geodesy—भूगणित
 Geodetic—भूगणितीय
 Geographical—भौगोलिक
 Geography—भूगोल
 Geological—भूवैज्ञानिक
 Geologist—भूविज्ञानी
 Geology—भूविज्ञान, भूमिकी
 Geomagnetic—भूचुम्बकीय
 Geomagnetism—भूचुम्बकत्व
 Geometrical—ज्यामितीय
 Geometry—ज्यामिति, रेखागणित
 Geomorphic—भू-आकृतिक
 Geomorphology—भू-आकृति विज्ञान

Geophilous—भूमिरागी
 Geophysical—भूमौतिकीय
 Geophysicist—भूमौतिकीविद्
 Geophysics—भूमौतिकी
 Geophyte—भूगर्भोद्भिद
 Geostrophic—भूविक्षेपी
 Geosyncline—भू-अभिनति
 Geotaxis—गुरुत्वीय अनुचलन
 Geotectonic—भूविवर्तनिक
 Geotropic—गुरुत्वानुवर्ती
 Geotropism, Geotropy—गुरुत्वा-
 नुवर्तन
 Geotype—भू-प्ररूप
 Germ—रोगाणु
 Germicide—रोगाणुनाशी
 Germinal—भ्रूणीय, जननिक
 Germination—अंकुरण
 Gestation—गर्भाविधि
 Geyser—उष्णोत्स
 Ghost signal—कपट संकेत
 Giant—बृहत्, महा
 Gibbous—अर्धाधिक
 Gigantism—अतिकायता
 Guild—सोना चढ़ाना
 Ginger—अदरक
 Glacial—हिमनदीय
 Glaciated—हिमनदित
 Glaciation—हिमनदन
 Glacier—हिमनद, हिमानी
 Gladius—शृंगीपत्र
 Gland—ग्रंथि
 Glandular—ग्रंथिल, ग्रंथिमय
 Glans—मुंड
 Glare—चौघ
 Glass—कांच, काच
 Glassy—काचाम, काच-सदृश
 Glaucous—नीलाम
 Glaucous—नीलाम
 Glaze (n.)—लुक, चमक (v.) रलेज
 करना, काचित करना, लुक चढ़ाना
 Glazed—चमकदार, काचित
 Glide—विसर्पण
 Gliding—(adj.) विसर्पी; (n.) विसर्पण
 Glisette—विसर्पिका
 Globe—गोला, गोलक
 Globoid—गोलाभ
 Globular—गोलाकार
 Globule—गोलिका
 Glochid, Glochidium—अंकुशलोम
 Glochidiate—अंकुशलोमी

Glomerate—गुंजित
 Glomerule—गुच्छ, केशिका-गुच्छ
 Glossophyal—जि ह्लाकठिकी
 Glossy—चमकदार
 Glottis—घाँटी
 Glow—दीप्ति
 Glucose—ग्लूकोज
 Glue—सरेस
 Glume—तुष
 Glutinous—लसदार
 Golden number—स्वर्णांक
 Gonocyst—बहुजननपुटी
 Gonoduct—युग्मक-वाहिनी
 Gonocidium—जननपुटी
 Good conductor—सुचालक
 Gorge—महाखड्ड
 Gouge—मूदलेप
 Graben—द्राणिका
 Grade—(n.) श्रेणी, दर्जा, कोटि, क्रम;
 (v.) कोटि निर्धारण करना
 Graded—प्रवणित, क्रमिक, श्रेणीकृत
 Gradient—प्रवणता
 Graduated—अंशांकित
 Graduation—अंशांकन, समानयन
 Graft—(n.) कलम; (v.) कलम रोपना
 Grafting—रोपण
 Grain—कण, दाना, अनाज
 Grand mean—महा-माध्य
 Grand total—सर्वयोग
 Granular—दानेदार, कणिकामय, रवेदार
 Granularity—कणिकामयता, कणिकता
 Granulated—दानेदार, कणिकायित,
 कणीभूत
 Granulation—कणिकायन, कणीभवन
 Granule—कणिका, कनी
 Granulitic—कणिकीय
 Granulose—दानेदार, कणिकामय
 Graph—ग्राफ, आलेख, रेखाचित्र
 Graphic, Graphical—आलेखी
 Grate—जालिका
 Graticule—रेखाजाल, सूत्रजाल
 Gravel—बजरी
 Gravimeter—गुरुत्वमापी
 Gravitation—गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व
 Gravitational—गुरुत्वीय
 Gravity—गुरुत्व
 Grazing angle—मृत्सर्पिकोण
 Grease—चिकनाई, स्नेह
 Great Bear—सप्तर्षि
 Gregarious—यूवी

Gregariousness—यूथिता
 Grey—घूसर
 Gritty—कणमय
 Gross—सकल, कुल
 Ground—स्थल, मूमि
 Groundshrew—छछूंदर
 Group—वर्ग, समूह
 Grouped—समूहित
 Grouping—समूहन
 Growth—वृद्धि
 Guard—कवच, रक्षक
 Guide line—निर्देशक रेखा
 Guiding—निर्देशक
 Gullet—ग्रसिका
 Gully—अवनालिका
 Gunpowder—बारूद
 Gust—निर्घात, झोंका
 Gustatory—रससवेदी
 Gut—आहारनली
 Guttation—विन्दुस्राव
 Gynaecium—जायांग
 Gynandromorph—स्त्रीपुरुष
 Gynandromorphism—स्त्रीपुरुषता
 Gynandrophore—पुंजायांगघर
 Gynandrous—पुंजायांगी
 Gyno-basic—जायांगनामिक
 Gynophore—जायांगघर
 Gyration—परिभ्रमण
 Gyrodynamics—परिभ्रमणगतिकी
 Gyromagnetism—घूर्ण-चुंबकत्व
 Gyroscope, Gyrostat—घूर्णाक्षिस्थायी

H

Habit—प्रकृति, स्वभाव
 Habitat—आवास
 Habitation—वासस्थान
 Hackly—बंबुर
 Hade—उन्नमन
 Haemocoel—रुधिर-गुहिका
 Haemoflagellate—रुधिरकशाभी प्राणी
 Hail—करक, ओला
 Hailstone—ओला
 Hairy—रोयेंदार, रोमिल
 Half-breed—प्रजाति-संकर
 Hallux—पादांगुष्ठ
 Halmyrolysis—समुद्री लोहचयन
 Halo—परिवेप, प्रभामंडल
 Halobios—समुद्री जीवनमूह
 Halobiotic—समुद्रवासी

Halter—संतोलक अंग
 Hamate—अंकुशिका
 Hamtioid—अंकुशाम
 Hamlet—पल्ली
 Handicraft—हस्तशिल्प
 Hanging—अवलंबी, निलंबी
 Haphazard—बदृच्छ
 Haploid—अगुणित
 Haplostele—बेलनरंभ
 Hapteron—स्थापनांग
 Haptotropic—स्पर्शानुवर्ती
 Haptotropism—स्पर्शानुवर्तन
 Harbour—पोताश्रय
 Hardened—दृढीभूत, कठोरीभूत
 Hardening—दृढीभवन, कठोरीभवन,
 दृढीकरण, कठोरीकरण
 Hardness—कठोरता, दृढ़ता, कड़ापन
 Hardtime—कठोर तुहिन
 Harmonic—संनादी, हरात्मक
 Harmony—सहस्वरता, सुस्वरता
 Harsh—रूक्ष
 Harvest—सस्य, फसल
 Harvesting—सस्य-संग्रहण, मत्स्य-
 संग्रहण
 Hastate—भालाकार, भालाम, कुंताभ
 Haustorium—चूषकांग
 Hazard—संकट
 Haze—धुंध
 Head—मुंडक, शीर्ष, सिर
 Headland—अंतरीप
 Headlight—अग्रदीप
 Headward—अभिशीर्ष
 Heat—ऊष्मा
 Heater—तापक
 Heathland—अजोत भूमि
 Heating—तापन
 Heavy—भारी, घोर, मघन
 Helical—सहस्र्युग
 Helicoid—कुंडलिनी
 Helicoid—कुंडलिनीरूप, घोंघाकार,
 सर्पिलज
 Heliocentric—सूर्य केंद्रिय
 Heliographic—सूर्यनिर्देशीय
 Heliometer—सूर्यविन्धमापी
 Heliophyte—आतपोद्भिद्
 Helioscope—सूर्यदर्शी, मोर दूरबीन
 Heliostat—सूर्यचित्रदर्शी
 Heliotropic—सूर्यानुवर्ती
 Heliotropism—सूर्यानुवर्तन
 Helix—गुंजिनी

Hellenes—यूनानी, ग्रीक
 Hellenism—ग्रीकवाद
 Hellubraum—रज्जुलावा
 Hemicrystalline—अर्धरवादार
 Hemicyclic—अर्धचक्रिक
 Hemihedral—अर्धफलकीय
 Hemihedrism—अर्धफलकता
 Hemihedron—अर्धफलक
 Hemimixis—अर्धमिश्रण
 Hemimorphic—अर्धकृति
 Hemisphere—गोलाध
 Hemispherical—अर्धगोल
 Hemp—भांग, सन
 Hepatic—यकृती
 Heptagon—सप्तभुज
 Herb, Herbage—शाक, बूटी
 Herbaceous—शाकीय, अकाष्ठिल
 Herbarium—वनस्पति-संग्रहालय
 Herbicide—शाकनाशी
 Herbicolous—शाकवासी
 Herbivore, Herbivorous—शाका-
 हारी, शाकभक्षी
 Hereditary—आनुवंशिक
 Heredity—आनुवंशिकता
 Heritability—वंशागतित्व
 Heritable—वंशागत
 Hermaphrodite, Hermaphroditic—उभयलिंगी
 Hermaphroditism—उभयलिंगता
 Heron—बक, बगुला
 Herpolehode—तल-लुंठज
 Hetero—विषम
 Heterocyclic—विषमचक्रीय
 Heterodont—विषमदंती
 Heterodyne—संकरण
 Heteroecious—मिन्नाश्रयी
 Heteroecism—मिन्नाश्रयिता
 Heterogamete—विषमयुग्मक
 Heterogamous—विषमयुग्मकी,
 विविधपुष्पी
 Heterogamy—विषमयुग्मन, विविध-
 पुष्पता
 Heterogeneity—विषमांगता
 Heterogeneous—विषमांग, विषमांगी,
 विषमजातीय, विजातीय,
 Heterogenetic—विषमजातीय,
 विजातीय
 Heteromorph—विषमरूप
 Heteromorphic—विषमरूपी
 Heteromorphism—विषमरूपता

Heteropolar—विषमध्रुवी
 Heteropoly—विषम-बहुलक
 Heteropolymerisation—विषम
 बहुलकीकरण
 Heteroscedasticity—विषमविचालिता
 Heterosis—संकरओज
 Heterosporus—विषमबीजाणु
 Heterosporous—विषमबीजाणुता
 Heterostatic—विषमविभव
 Heterostyly—विषमवर्तिकात्व
 Heterotrophic—परपोषित
 Heterozygosis—विषमयुग्मजता
 Heterozygote—विषमयुग्मज
 Heterozygous—विषमयुग्मकी
 Hexagon—षट्भुज
 Hexagonal—षट्कोणीय, चतुरक्ष
 Hexahedron—षट्फलक
 Hexamerous—षट्दयी
 Hierarchy—पदानुक्रम
 High—उच्च
 Higher—उच्चतर
 Highland—उच्चभूमि
 Highway—महामार्ग, राजमार्ग
 Hill—पहाड़ी
 Hilum—नाभिका
 Hind—पशु
 Hinge—कब्जा
 Hinterland—पश्चभूमि
 Hip—श्रोणि
 Hippopotamus—दरियाई घोड़ा
 Hirsute—दीर्घलोमी
 Hirtellous—किंचित् दीर्घलोमी
 Hispid—दृढलोमी
 Histogenesis—ऊतक-जनन
 Histogram—आयतचित्र
 Histological—ऊतिकीय
 Histology—ऊतक-विज्ञान, ऊतिकी
 Histolysis—ऊतकलय
 Historigram—कालिकचित्र
 Hoarfrost—घवल तुषार, पाला
 Hoary—श्वेत रोमिल
 Hodograph—वेगलेख
 Holdfast—स्थापनांग
 Holding—जोत
 Holoblastic—पूर्णमंजी
 Holobranch—पूर्णक्लोम
 Holocrine—पूर्णलावी
 Hologamete—पूर्णयुग्मक
 Hologamous—पूर्णयुग्मकी
 Hologamy—पूर्णयुग्मन

Holohedral—पूर्णफलकीय
 Holohyaline—पूर्णकाचिक
 Holometabolic—पूर्णरूपांतरिव
 Holophytic—पादपसम
 Holostomatous—पूर्णपरिसुखी
 Homicide—नरघाती
 Homo-centric—संकेद्री
 Homocercal—समपालिपुच्छ
 Homocline—एकदिग्गत
 Homocline—एकनतिक
 Homodont—समदंती
 Homoeomorphic—समरूपी
 Homogamous—समपुष्पी, समकाल-
 पाकी, समयुग्मकी
 Homogamy—समपुष्पता, समकाल-
 पक्वता, समयुग्मन
 Homogeneity—समांगता, समघातता
 Homogeneous—समांग, समांगी,
 सजातीय, समघात
 Homographic—वज्रानुपाती
 Homography—वज्रानुपातितता
 Homologous—समजात, सजातीय
 Homologue—सजाती, समजात
 Homology—समजातता, सजातीयता
 Homomorphic—समरूपी
 Homomorphism—समरूपता
 Homoplasty—अभिसरण
 Homopolar—समध्रुवी
 Homoscedastic—समविचाली
 Homoscedasticity—समविचालिता
 Homoseismal—सहभूकंप
 Homosporous—समबीजाणु
 Homosporous—समबीजाणुता
 Homotaxis—समक्रम, समस्तरक्रम
 Homothetic—समस्थिति
 Homozygosis—समयुग्मजता
 Homozygote—समयुग्मज
 Homozygous—समयुग्मकी
 Honestone—शाणाश्म
 Hook—अंकुश
 Horizon—क्षितिज
 Horizontal—क्षैतिज
 Hornbill—घनेश
 Horny scutes—शृंगी शल्क
 Horograph—सीमालेखी
 Horse-power—अश्व-शक्ति
 Horticulture—उद्यानकृषि
 Host—परपोशी, आतिथेय
 Hot—तप्त, गरम
 Hourglass—रेतघड़ी

Hub—नामि
 Hue—वर्ण
 Human—मानव
 Humanity—मानवता
 Humanization—मानवीकरण
 Humerus—प्रगंडिका
 Humid—आर्द्र
 Humidification—आर्द्रीकरण, नमीकरण
 Humidify—आर्द्र करना
 Humidity—आर्द्रता, नमी
 Hump—कबुद, कूबड़
 Hurricane—प्रमंजन
 Hyaline—काचाम
 Hybrid—संकर
 Hybridisation—संकरण
 Hybridism—संकरता
 Hybridize—संकरण करना
 Hydathode—जलरंध्र
 Hydranth—पोषक जीवाम
 Hydrated—जलयोजित
 Hydration—जलयोजन
 Hydraulic—द्रवचालित, जलीय
 Hydraulics—प्रचार-संजन
 Hydrocoel—जलगुहा
 Hydrodynamics—द्रवगति-विज्ञान
 Hydroelectric—जलविद्युत्
 Hydrogen—हाइड्रोजन
 Hydrokinetic—द्रवगतिकीय
 Hydrology—जलविज्ञान
 Hydrolysis—जल-अपघटन
 Hydrolite—जल-अपघट्य
 Hydrolytic—जल-अपघटनीय
 Hydromechanic—द्रवयन्त्र-विज्ञान
 Hydrometallurgy—जलयानुक्रम
 Hydrometer—उपलव घनत्वमापी
 Hydrophilic—जनस्नेही
 Hydrophobic—जन-विरोधी
 Hydrophyte—जलीयपौध
 Hydrosere—जनक्रमक
 Hydrosol—जनविणय
 Hydroscope—जनदर्शी
 Hydrospire—जनशाम-नाम
 Hydrostatic—जनस्थैतिक
 Hydrostatics—जनस्थैतिक - विज्ञान, प्रत्यक्षिकी
 Hydrotheca—जलप्रार
 Hydrothermal—उष्णजलीय
 Hydrotropic—जलप्रेरणी
 Hydrotropism—जलप्रेरण
 Hyetograph—वर्षा-निर्ण

Hygrography—आर्द्रता-नेत्री
 Hygrometry—आर्द्रता-विज्ञान
 Hygrometer—आर्द्रतामापी
 Hygrometry—आर्द्रतामिति
 Hygrophyte—आर्द्रतापौध
 Hygroscope—आर्द्रतादर्शी
 Hygrosopic—आर्द्रतासाही
 Hygrothermograph—आर्द्रतातापनेत्री
 Hyoid—कंठिका
 Hyostylic—कंठिका-निलंबित
 Hypapophysis—अधोवर्ध
 Hypaxial—निम्नाक्ष
 Hyperbola—अतिपरवलय
 Hyperbolic—अतिपरवलयिक
 Hyperboloid—अतिपरवलयज
 Hyperbranchial—अतिश्वसन
 Hyperdactyle—अधिकंगुल
 Hyperdactily—अधिकंगुलता
 Hyperfine—अतिमूढम
 Hypermetamorphosis—अतिरूपांतरण
 Hypermetropia—दीर्घदृष्टि
 Hyperparasite—परात्परजीवी
 Hyperparatism—परात्परजीवित
 Hyperphalangy—अधिअंगुलिपर्वता
 Hyperpharyngeal—अधिग्रन्थी
 Hyperplasia—अतिवृद्धि
 Hypersensitivity—अतिसंवेदनशीलता
 Hypersexuality—अतिनिर्णयता
 Hyperspace—पराकाश, बहुविम आकाश
 Hypersphere—पराकाशी गोला, बहुविम गोला
 Hypersurface—पराकाशी या बहुविम पृष्ठ
 Hypertonic—अतिपरतनरी
 Hypertrophy—अतिवृद्धि
 Hyphe—तन्त्रक तंतु
 Hypidiomorphic—अंतररूपिक
 Hypnotic—निद्राकारी
 Hypobranchial—अधोश्रोणी
 Hypocentre—अधोकेन्द्र
 Hypocotyl—अधोतनापर
 Hypocycloid—अधोचक्र
 Hypodermis—अधोत्वचा, अधःचर्म
 Hypogastric—अधोपेट
 Hypogeal—अधोमृत्त
 Hypogean—अधोमृत्त
 Hypogynous—अधोमूलापर
 Hypometamorphosis—अतिरूपांतरण
 Hypometry—अधोमिति
 Hyponeural—अधोमज्जिका

Hypopharynx—अधोग्रन्थी
 Hypophysis—अधोग्रन्थीविज्ञान, निर्वहण-तन्त्रिका
 Hypoplasia—अधोवृद्धि
 Hypotenuse—कर्ण
 Hypothermal—अतितापीय
 Hypothesis—परिग्रह्यता
 Hypothetical—परिग्रहित, परिग्रह्य-नात्मक
 Hypotrochoid—अंतस्त्रिभुजगत
 Hypozone—अधोमंडल
 Hypselodont—सुंग्रन्थी
 Hypsographical—उच्चतादर्शी
 Hypsometer—उच्चतामापी
 Hypotonic—अधोत्वचा-अपघटक
 Hysteresis—अधोप्रेरण

I

Ice—बर्फ, हिम
 Ice age—हिमकाल
 Iceberg—प्लवचो हिमकाल
 Icebreaker—हिमभंगक
 Icebound—हिमबद्ध
 Icecap—हिमच्छद
 Icefall—हिमपात
 Ichthyology—मत्स्य-विज्ञान
 Ichthyopterygium—मत्स्य-पुच्छ
 Icicle—हिमलंब
 Iconoscope—चित्रदर्शी
 Icosahedron—द्विचक्रक
 Jcy—हिममय, बरीला
 Ideal—आदर्श
 Idempotent—सममग
 Identical—समम, समान, समक
 Identity—सममविज्ञान, सममता
 Idiomorphic—समरूपिक
 Idiostatic—समविज्ञान
 Igneous—अग्नि, अग्नि
 Igenifluous—अग्नि-व्यस्र
 Ignite—अग्नि प्रकृत
 Ionian—अग्नि
 Ionization—अग्नि
 Ionized—अग्नि-व्यस्र
 Ionosphere—अग्नि-मंडल
 Humus—पुच्छ
 Hue—वर्ण
 Humid—आर्द्र
 Humidification—आर्द्रीकरण
 Humidity—आर्द्रता
 Hurricane—प्रमंजन
 Hyaline—काचाम
 Hybrid—संकर
 Hybridisation—संकरण
 Hybridism—संकरता
 Hybridize—संकरण करना
 Hydathode—जलरंध्र
 Hydranth—पोषक जीवाम
 Hydrated—जलयोजित
 Hydration—जलयोजन
 Hydraulic—द्रवचालित, जलीय
 Hydraulics—प्रचार-संजन
 Hydrocoel—जलगुहा
 Hydrodynamics—द्रवगति-विज्ञान
 Hydroelectric—जलविद्युत्
 Hydrogen—हाइड्रोजन
 Hydrokinetic—द्रवगतिकीय
 Hydrology—जलविज्ञान
 Hydrolysis—जल-अपघटन
 Hydrolite—जल-अपघट्य
 Hydrolytic—जल-अपघटनीय
 Hydromechanic—द्रवयन्त्र-विज्ञान
 Hydrometallurgy—जलयानुक्रम
 Hydrometer—उपलव घनत्वमापी
 Hydrophilic—जनस्नेही
 Hydrophobic—जन-विरोधी
 Hydrophyte—जलीयपौध
 Hydrosere—जनक्रमक
 Hydrosol—जनविणय
 Hydroscope—जनदर्शी
 Hydrospire—जनशाम-नाम
 Hydrostatic—जनस्थैतिक
 Hydrostatics—जनस्थैतिक - विज्ञान, प्रत्यक्षिकी
 Hydrotheca—जलप्रार
 Hydrothermal—उष्णजलीय
 Hydrotropic—जलप्रेरणी
 Hydrotropism—जलप्रेरण
 Hyetograph—वर्षा-निर्ण

Illuminating—प्रदीपक
 Illumination—प्रदीप्ति
 Illusion—भ्रम
 Illusory—आभासी
 Illustration—उदाहरण, दृष्टांत
 Image—प्रतिविम्ब
 Imaginary—कल्पित, काल्पनिक
 Imago—पूर्णकीट
 Imbibe—अंतःशोषण करना
 Imbibition—अंतःशोषण
 Imbibitional—अंतःशोषित
 Imbricate—तोख्खादी, खपरैल
 Imitation—(*adj.*) कृत्रिम, नकली
 Imitative—अनुकारी
 Immersion—निमज्जन
 Immigrant—आप्रवासी
 Immigration—आप्रवासन, आप्रवास
 Immiscible—अमिश्रणीय
 Immobile—निश्चल, अचल
 Immortality—अविनाशिता
 Immune—असंक्राम्य, प्रतिरक्षित
 Immunity—असंक्राम्यता, प्रतिरक्षा
 Immunization—प्रतिरक्षीकरण,
 असंक्रमीकरण
 Impact—संघट्ट, टक्कर
 Impalpable—स्पर्शगोचर
 Imparipinnate—विषम-पक्षाकार
 Impenetrability—अवेद्यता
 Imperceptible—अप्रत्यक्ष, अगोचर
 Imperfect—अपूर्ण
 Imperforate—अद्धिद्री
 Impermeable—अपारगम्य
 Impervious—अप्रवेश्य
 Impinge—टकराना
 Implantation—आरोपण
 Implanted—रोपित
 Implement—औजार
 Implicit—अस्पष्ट
 Impregnate—संसिक्त या संसेचित
 करना
 Impregnated—संसिक्त, संसेचित,
 व्याप्त
 Impregnation—गर्भाधान, संसेचन
 Impression,—mprint—छाप, चिह्न
 Improbable—अप्रायिक
 Improper—(*Math.*) विषम
 Improved—उन्नत, संशोधित, सुधरा हुआ
 Impulse—आवेग
 Impulsive—आवेगी
 Inaccessable—अगम्य

Inaccurate—अयथार्थ
 Inactivation—निष्क्रियण
 Inactive—निष्क्रिय
 Inanimate—निर्जीव, अचेतन
 Inaudible—अश्रव्य
 Inbreak—अंतर्भंग
 Inbred—अंतःप्रजात
 Inbreeding—अंतःप्रजनन
 Incandescence—तापदीप्ति
 Incandescent—तापदीप्त
 Incentre—अंतःकेन्द्र
 Incidence—आपतन
 Incident—आपतित
 Incinerate—भस्म करना
 Incineration—भस्मीकरण
 Incipient—प्रारंभी
 Inncircle—अंतर्वृत्त
 Incised—अघःकांतित
 Incisiform—कृतकरूपी
 Incision—कटाव, चीरा
 Incisive—कृतकी
 Incisor—कृतक
 Inclination—झुकाव, आनति
 Inclined—आनत, झुका हुआ
 Included—अंतर्गत, अंतर्विष्ट
 Inclusion—अंतवश, अंतर्वेशन
 Income—आय
 Incoming—प्रवेशी
 Incommensurable—असम्मेय
 Incompetent—असमर्थ
 Incomplete—अपूर्ण, असंपूर्ण
 Incompressible—असंपीड्य
 Incongruent—असर्वांगसम
 Inconsistent—असंगत, विरोधी
 Incorporated—समाविष्ट
 Incorporation—समावेशन
 Incorrect—अशुद्ध, गलत
 Increase—वृद्धि
 Increasing—वर्द्धमान
 Incrustation—पपड़ी
 Incubation—ऊष्मायन, उद्भवन
 Incubator—ऊष्मायित्र
 Incumbent—उपाश्रयी
 Incurrent—अंतर्वाही
 Indehiscent—अस्फुटनशील
 Indefinite—अनिश्चित
 Indentation—दंतुरता
 Indented—दंतुरित
 Indenting—दंतुरण
 Independent—स्वतंत्र

Indestructibility—अविनाशिता
 Indeterminancy—अनिर्धार्यता
 Indeterminate—अपरिमित, अनिर्वा-
 रित, अनिर्धार्य
 Index—घातांक, सूचक
 Indicator—सूचक
 Indicatrix—द्योतिका
 Indicial—घातांकी
 Indifferent—उदासीन
 Indigenous—देशज
 Indigo—नील
 Indirect—परोक्ष, अप्रत्यक्ष
 Indistinguishable—अप्रभेद्य
 Individual—(*adj.*) व्यक्तिगत, व्यष्टि;
 (*n.*) व्यक्ति, व्यष्टि
 Individuality—व्यक्तित्व, व्यष्टित्व
 Indivisible—अविभाज्य
 Indraft—अंतःप्रवेशी
 Induced—प्रेरित
 Inductance—प्रेरकत्व
 Induction—प्रेरण
 Inductive—प्रेरणिक
 Inductor—प्रेरक
 Indurated—दृढ़ीभूत, कठोरीभूत
 Induration—दृढ़ीकरण, कठोरीकरण,
 दृढ़ीभवन, कठोरीभवन
 Industrial—औद्योगिक
 Industrialisation—औद्योगीकरण
 Industrialised—औद्योगीकृत
 Industry—उद्योग
 Ineffective—अप्रभावी
 Inelastic—अप्रत्यास्थ
 Inequality—असमता, असमिका
 Inequigranular—असमकणिक
 Inert—अक्रिय, जड़
 Inertia—जड़त्व
 Inertial—जड़त्विय
 Inexhaustible—अक्षय
 Inextensible—अवितान्य
 Infanticide—शिशुहत्या
 Infection—संक्रमण
 Infectious, Infective—संक्रामक
 Inferre—अनुमिति, अनुमान
 Inferior—अधर, अधोवर्ती, निम्न
 Infertile—अनुवंर
 Infested—ग्रस्त
 Infilling—आपूर्जन
 Infinite—अनंत, अपरिमित
 Infinitesimal—अनंतसूक्ष्म, अत्यणु
 Infinity—अनंत, अनन्ती

Inflammable—ज्वलनशील
 Inflated—स्फीत, फूला हुआ
 Inflation—स्फीति
 Inflected, Inflected—अंतर्नत
 Inflexion—नति-परिवर्तन
 Inflorescence—पुष्पक्रम
 Inflow, Influx—अंतर्वाह
 Infrangible—अमंगुर
 Infrasonic—अवश्रव्य
 Infrasonics—अवश्राविकी
 Infundibular—कीपाकार
 Infundibuliform—कीपाकार
 Infundibulum—कीप, कीपक
 Ingestion—अंतर्ग्रहण
 Ingot—सिल, सिल्ली
 Inguinal—बंधण
 Inhalation—निश्वासन, अंतःश्वसन
 Inhalent—अंतर्वाही
 Inherent—जन्मजात
 Inheritance—वंशागति
 Inherited—वंशागत
 Inhibition—संदमन, निरोध
 Inhibitor—निरोधक, संदमक
 Inhibitory—निरोधी
 Initial—आदि, आरंभिक, प्रारंभिक
 Injected—अंतःक्षिप्त
 Injection—अंतःक्षेपण
 Inland—अंतःस्थलीय, अंतर्देशी
 Inlet—प्रवेश-द्वार, अंतर्गम, निवेशिका
 Inner—आंतर, भीतरी, आभ्यंतर, आंतरिक
 Inoculation—टीका
 Inoperculate—ढक्कनहीन, प्रच्छदहीन
 Inorganic—(Chem.) अकार्बनिक; (Biol.) अजैव
 Input—(n.) निवेश; (adj.) निविष्ट, निवेशी
 Insect—कीट
 Insectivorous—कीटाहारी
 Insecurity—असुरक्षा
 Insemination—वीर्य-सेचन
 Insequent—अक्रमवर्ती
 Inserted—निविष्ट, आलग्न
 Insertion—निवेशन
 Insignificant—नगण्य, उपेक्षणीय
 Insolation—आतपन, सूर्यातप
 Insolubility—अविलेयता
 Insoluble—अविलेय
 Inspection—निरीक्षण
 Inspiration—निःश्वसन

Instability—अस्थायित्व
 Instantaneous—तात्क्षणिक
 Instinct—सहज वृत्ति, नैसर्गिक वृत्ति
 Instrument—औजार, यंत्र
 Insular—द्वीपीय, द्वीपवासी
 Insulated—रोधी
 Insulation—रोधन, विद्युत्रोधन, ऊष्मारोधन
 Insulator—रोधी
 Integer—पूर्णसंख्या, पूर्णांक
 Integrability—समकलनीयता
 Integrable—समकलनीय
 Integral—समाकल
 Integrand—समाकल्प
 Integrate—समाकलन करना
 Integrated—समाकलित
 Integration—समाकलन
 Integument—अध्यावरण
 Integumental, Integumentary—अध्यावरणी
 Intense—तीव्र
 Intensity—तीव्रता
 Intensive—गहन
 Interaction—अन्योन्य या पारस्परिक क्रिया
 Interambulacral—अंतरावीची
 Inter-articular—अंतरासंधि
 Inter-artial—अंतरा-अलिद
 Inter-atomic—अंतरापरमाणुक
 Interbreeding—संकरण
 Interchange—विनिमय
 Intercommunication—अन्योन्य-संचार
 Intercourse—परस्पर-व्यवहार
 Interdependence—अन्योन्याश्रय
 Interfoliar—अंतरापर्णी
 Intergrowth—अंतर्वृद्धि
 Interior—(n.) अभ्यंतर, अंतरंग
 Intermediary—मध्यस्थ
 Intermediate—माध्यमिक, मध्यवर्ती, माध्य
 Intermigration—अन्योन्य-प्रवासन
 Internal—आंतर, आंतरिक, अभ्यंतर
 International—अंतर्राष्ट्रीय
 Internode—पर्व, पोरि
 Interpenetration—अंतर्वेदन
 Interplantation—अंतरारोपण
 Inter-regional—अंतःप्रदेशीय
 Inter-relationship—परस्पर संबंध
 Intersecting—प्रतिच्छेदी

Intersection—प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदन
 Interspace—अंतराल
 Interstice—अंतराल, अंतराकाश
 Interval—अंतराल, अंतर
 Intervisibility—परस्पर-दृश्यता
 Intervisible—परस्पर-दृश्य
 Intestinal—आंत्रिक, आंत्र
 Intestine—आंत, आंत्र
 Intimate—घनिष्ठ
 Intra—अंतः, अंतर
 Intrinsic—निज, नैज, आंतर
 Intromittent—प्रवेशी
 Introrse—अंतर्मुख
 Intrusion—अंतर्वेध, अंतर्वेधन
 Intrusive—अंतवधी
 Inundation—आप्लाव, बाप्लावन
 Invaginated—अंतर्वलित
 Invagination—अंतर्वलन
 Invariable—अचर, अपरिवर्ती
 Invariants—शून्यचर, निश्चर
 Invention—आविष्कार, ईजाद
 Inventor—आविष्कारक, ईजादकर्ता
 Inverse—प्रतिलोम, प्रतीप, व्युत्क्रम
 Inversion—प्रतिलोमन, प्रतीपन
 Inversive—प्रतिलोमी
 Invertebrate—अकशोष्की, अपृष्ठवंशी
 Inverted—प्रतिलोमित, व्युत्क्रमित
 Investigation—अन्वेषण
 Investigator—अन्वेषक
 Investment—निवेश
 Invigorating—प्रवितवर्धक
 Invisibility—अदृश्यता
 Invisible—अदृश्य
 Invoice—धीजक
 Involuntary—अनैच्छिक
 Involution—अंतर्दानन
 Iodine—आयोडीन
 Ion—आयन
 Ionic—आयनिक, आयनी
 Ionisation—आयनन
 Iridescence—रंगदीप्ति
 Iridium—इरीडियम
 Iron—लोहा, लौह
 Irradiation—किरणन
 Irreducible—अतर्नीय
 Irregular—अनियमित
 Irresolvable—असंज्ञेय, असंगत, अधिभेदनीय
 Irreversible—अनप्रत्याप

Irritant—उत्तेजक

Islet—उपद्वीप

Isobar—समदाव-रेखा

Isobaric—समदावी

Isochronism—समकालत्व

Isoclinal—समनत

Isogamous—समयुग्मकी

Isogamy—समयुग्मन

Isolate—विलग करना

Isolated—वियुक्त

Isolation—वियोजन, विलगन

Isologous—समजातीय

Isomeric, Isomericous—समावयवी

Isomorphous—समाकृतिक

Isostasy—समस्थिति

Isostatic—समस्थितिक

Isothermal—समतापी

Iteration—पुनरावृत्ति

J

Jaculator—उत्क्षेपक

Jarovisation—वर्षतीकरण

Jerk—झटका

Jewelled—रत्नित

Joint—संधि

Jointed—संधित

Junction—संधि

Jupiter—बृहस्पति, गुरु

Justifiable—तर्कसंगत

Justification—तर्क-संगति

Juxtaposition—सन्निति, सान्निध्य

K

Kangaroo—कंगारू

Karyology—कणक-विज्ञान

Katabolism—अपचय

Katazone—निम्नमंडल

Keel—नौतल

Kernel—गरी, अष्टि

Kidney—वृक्क

Kiln—भट्टा

Kinematograph—चलचित्रदर्शी

Kinesis—गतिक्रम

Kinetic—गतिक, गतिज

Kinetics—बलगत-विज्ञान, बलगतिकी

Kinship—वंशता

Kinsmen—निकट-संबंधी, ज्ञाति

Knob—बुँडी

Knot—गाँठ, गंधि

L

Labial—ओष्ठ, ओष्ठीय

Labiate—ओष्ठी

Laboratory—प्रयोगशाला

Lac—लाख, लाक्षा

Laccate—चमकीला

Lacinate—विदीर्ण

Lactometer—दुग्धमापी

Lactose—दुग्ध-शर्करा

Laevorotation—वामावर्तन

Lag—पश्चता

Lake—झील, सरोवर

Lamellar—स्तरित, स्तरमय, पटलित

Lamelliform—पटलिकारूप

Lamina—स्तरिका, पटल

Laminar—स्तरीय

Laminated—स्तरित, पटलित

Lanate—लोमश, बालदार

Lanceolate—मालाकार

Landscape—दृश्यभूमि

Lanuginous—रोमश

Lapis lazuli—लाजवर्द

Larva Larval—डिम्बक,

Larynx—कंठ

Latent—गुप्त

Lateral—पार्श्व, पार्श्विक, पार्श्वीय

Lathe—खराद

Latitude—अक्षांश

Lattice—जालक

Law—नियम, सिद्धांत, विधि, कानून

Lax—विरल

Laxative—रेचक, दस्तावर

Layer—परत, स्तर

Leading—अग्रग, प्रधान

Leaflet—पत्रक, पर्णक

Leafsheath—पर्णच्छद

Leafstalk—पर्णकवृंत

Leakage—च्यवन, क्षरण

Least—न्यूनतम, अल्पतम, लघुतम

Leech—जौक

Legacy—रिक्थ

Legume—शिव, फली

Leguminous—शिवी, फलीदार

Lesion—क्षत

Lethal—घातक

Levee—तटबंध

Level—समतल, क्षैतिज

Lever—उत्तोलक

Libra—तुला

Ligament—स्नायु

Lightning—तडित्, विजली

Ligulate—जीमिकाकार

Limestone—चनापत्थर

Limitation—सीमाबंधन, सीमा

Limnetic—सरोवरी

Lineage—वंश-परंपरा

Linear—रेखीय, रैखिक, रेखाकार

Lineate—रेखित

Liner—जहाज

Lining—अस्तर

Link—कड़ी, शृंखला, बंध

Linkage—सहलग्नता

Linseed—अलसी

Liquefaction—द्रवण, द्रावण

Liquid—द्रव

Lithification—अश्मीभवन

Lithography—अश्ममृद्रण

Lithology—अश्म-विज्ञान

Lithophyte—अश्मोद्भिद

Lithosphere—स्थलमंडल

Livelihood—जीविका

Liver—यकृत, जिगर

Livestock—पशुधन

Lizard—मोघिका, छिपकली

Load—बोझ, भार

Loadstar—ध्रुवतारा

Loadstone—चुंबक

Loam—दुमट

Local—स्थानीय

Localization—स्थानीकरण, स्थान-निर्धारण

Location—स्थान, अवस्थिति

Locomotion—चलन, गमन

Locomotive—रेल का इंजन

Locule—कोष्ठक

Locus—कोष्ठक

Locus—विदुपथ, रेखापथ

Locust—टिड्डी

Lodestar—ध्रुवतारा

Lodestone—चुंबक पत्थर

Logarithm—लघुगणक

Logical—तर्क-संगत

Longevity—आयु-काल, दीर्घ आयु

Longitude—रेखांश, देशांतर

Longitudinal—देशांतरीय

Loose—अवद्ध, अदृढ़

Lowland—निम्न भूमि

Lowlying—निम्न

Lowest—निम्नतम

Lubricant—स्नेहक
 Lubrication—स्नेहन
 Lukewarm—कुनकुना, गुनगुना, अल्पोष्ण
 Lumber—कटि, कमर
 Luminance—ज्योतिर्मयता
 Luminescence—संदीप्ति
 Luminosity—ज्योति
 Luminous—दीप्त, प्रदीपी
 Lunar—चांद्र
 Lunation—चांद्र मास
 Lung—फुफुस, फेफड़ा
 Lustre—द्युति, चमक
 Lustrous—द्युतिमान, चमकीला
 Lymph—लसीका
 Lymphatic—लसीका-संबंधी

M

Machine—यंत्र, कल, मशीन
 Machinery—यंत्रावली
 Macro—दीर्घ, गुरु
 Macula—घन्वा
 Maculose—घन्वेदार
 Madder—मंजिष्ठ
 Magnet—चुंबक
 Magnetic—चुंबकीय
 Magnetisation—चुंबकन
 Magnetism—चुंबकत्व
 Magnetometer—चुंबकत्वमापी
 Magnetoscope—चुंबकत्वदर्शी
 Magnification—आवर्धन
 Magnifier—आवर्धक
 Magnitude—परिमाण
 Main—मुख्य, प्रमुख
 Maintenance—पोषण
 Major—दीर्घ, गुरु, मुख्य
 Male—नर, पुं-
 Malleable—आघातवर्ध
 Malnutrition—कुपोषण
 Maltose—यवशकरा
 Mammal—स्तनधारी, स्तनी, स्तनपायी
 Mammary—स्तन
 Mankind—मानवजाति
 Manual skill—हस्त कौशल
 Manufacture—औद्योगिक निर्माण
 Manufacturer—निर्माता
 Mapping—मानचित्रण, भूमापन
 Marble—संगमरमर
 Margin—सीमा, तट, कोर, उपांत

Marginal—सीमांत, उपांतस्थ, उपांत
 Marine—समुद्री
 Maritime—समुद्रवर्ती, समुद्रतटीय, अनुसमुद्री
 Mark—अंक, चिह्न, निशान
 Marked—अंकित
 Marrow—मज्जा
 Marsh—कच्छ
 Marsupium—शिशुवाणी
 Mass—द्रव्यमान, संहति
 Massive—स्थूल, संपुंजित
 Mastication—चर्वण
 Material—पदार्थ, सामग्री, वस्तु, द्रव्य
 Maternal—मातृक
 Mathematical—गणितीय
 Mathematics—गणित
 Mating—संगम
 Matter—द्रव्य, पदार्थ
 Maturation—परिपक्वन
 Mature—परिपक्व, प्रौढ़
 Maturity—परिपक्वता, प्रौढ़ता
 Maximum—महत्तम, उच्चतम, अधिकतम
 Mean—माध्य, औसत
 Meander—विसर्प
 Means—मध्यपद
 Measure—माप
 Measurement—माप, मापन नाप, तौल
 Mechanical—यांत्रिक, यंत्र-संबंधी
 Mechanics—यंत्र-विज्ञान, यांत्रिकी
 Mechanism—यांत्रिकत्व, यंत्रावली
 Medial—मध्यस्थ, मध्यवर्ती, मध्य
 Median—मध्य, मध्यस्थ
 Medium (*adj.*) मध्यम; (*n.*) माध्यम
 Mega—स्थूल, स्पष्ट, गुरु
 Melanism—अतिकृष्णता
 Melody—लय, स्वरानुक्रम
 Melt—गलना, पिघलना
 Melting point—गलनांक
 Membrane—झिल्ली, झिल्लिका, कला
 Menagerie—प्राणिशाला
 Menstruation—ऋतुस्त्राव, रजोवर्ष
 Mental—मानसिक
 Merchantman—सौदागर, व्यापारी
 Mercuration—पारद-निवेशन
 Mercuric—पारदिक
 Mercury—बुध ग्रह, पारद, पारा
 Meridian—पाम्योत्तर
 Meridional—रेखांशिक
 Meshwork—जाल

Mesothorax—मध्यवक्ष
 Metabolic—उपापचयी
 Metabolism—उपापचय
 Metal—धातु
 Metalled road—पक्की सड़क
 Metallic—धात्विक, धातु
 Metallization—धात्विकीकरण
 Metallurgy—धातुकर्म
 Metamorphism—कायांतरण
 Metamorphosis—कायांतरण
 Meta-thorax—पश्च-वक्ष
 Meteor—उल्का
 Meteorite—उल्कापिंड
 Meteorologist—मौसम-विज्ञ
 Meteorology—मौसम-विज्ञान
 Method—रीति, विधि
 Methodology—विधि-तंत्र
 Metre—मीटर
 Metropolis—महानगर
 Metropolitan—महानगरीय
 Mica—अभ्रक
 Micaceous—अभ्रकी
 Micro—सूक्ष्म, लघु-
 Microscope—सूक्ष्मदर्शी
 Microzon—सूक्ष्मप्राणी
 Midbrain—मध्यमस्तिष्क
 Migration—प्रवास
 Mild—मंद, मृदु
 Middew—फर्फदी
 Military—सैनिक
 Milky—दूधिया
 Milky way—आकाश गंगा
 Mill—चक्की, मिल, कारखाना
 Mimetic—अनुहारी
 Mimicry—अनुहरण
 Mine—खान, खदान
 Mineral—खनिज
 Mineralization—खनिजन
 Mineralogy—खनिज-विज्ञान
 Miniature—लघु रूप, लघु
 Minimum—न्यूनतम, अल्पतम, लघुतम
 Minor—लघु, गौण
 Mirage—मरीचिका
 Mirror—दर्पण
 Miscibility—मिश्रणीयता
 Miscible—मिश्रणीय
 Mist—कुहासा
 Mixed—मिश्रित
 Mixture—मिश्रण
 Mobile—गतिशील, ...

Mobility—गतिशीलता
 Mode—विधि, रीति, प्रणाली
 Model—नमूना, प्रतिरूप
 Moderate—साधारण, मंद
 Modicum—किंचित्
 Modification—रूपांतर, रूपांतरण परिवर्तन
 Modified—रूपांतरित, परिवर्तित
 Modifying—रूपांतरक
 Moist—नम, आर्द्र, भीगा
 Moisture—आर्द्रता, नमी
 Molasses—शोरा
 Molecular—आणविक
 Molecule—अणु
 Moment—आघूर्ण
 Momental—आघूर्णी
 Momentum—संवेग
 Moniliform—मालाकार
 Mono—एक, एकल
 Monopoly—एकाधिकार
 Monotropy—एकरूपता
 Monsoon—मानसून
 Moonstone—चंद्रकांतमणि
 Moorland—झावर भूमि
 Morphological—आकृतिक
 Morphology—आकृति-विज्ञान
 Mortality—मृत्यु-संख्या, मृत्युदर, मर्त्यता
 Moth—शलभ
 Motile—गतिशील, चर
 Motion—गति
 Motion picture—चल-चित्र
 Motor—प्रेरक
 Movement—गति, आंदोलन, संचलन
 Mucus—श्लेष्मा
 Multiple (*adj.*) गुणित, बहुगुण, बहु, बहुत
 (*n.*) गुणज, अपवर्त्य
 Multiplicand—गुण्य
 Multiplication—गुणन
 Multiplicity—बहुकल्प
 Multiplier—गुणक
 Muscle—पेशी
 Muscular—पेशीय
 Musical—संगीत, संगीतिक
 Mutual—पारस्परिक, अन्योन्य
 Mutualism—सहोपकारिता
 Myco—कवक
 Myopia—निकट-दृष्टि

N

Nadir—अधोविन्दु
 Nasal—नासा, नासीय

Nascent—नवजात
 Natality—जन्म-दर
 National—राष्ट्रीय
 Nationality—राष्ट्रीयता
 Native—प्राकृत, प्राकृतिक, मूल निवासी
 Natural—प्राकृत, प्राकृतिक, स्वाभाविक
 Naturalist—प्रकृति-विज्ञानी
 Nature—प्रकृति, निसर्ग
 Nautical—नाविक, समुद्री
 Navel—नाभि
 Navigable—नाव्य
 Navigation—नौ-संचालन
 Neap tide—लघूतम ज्वार
 Nebula—नीहारिका
 Necrosis—अस्थिक्षय
 Nectar—मकरंद
 Nectary—मकरंदकोष
 Negative—ऋण, ऋणात्मक
 Negligible—उपेक्षणीय
 Nerve—तंत्रिका
 Nervous—तंत्रिकीय
 Network—जाल
 Neural—तंत्रिकीय
 Neuration—शिरा-विन्यास
 Neutral—उदासीन, तटस्थ
 Neutralization—उदासीनीकरण, तटस्थीकरण
 Neutrality—उदासीनता, तटस्थता
 Nipple—स्तनाग्र, चूचुक
 Nitre—शोरा
 Nocturnal—रात्रिचर, नैश
 Nodule—ग्रंथिका
 Nomad—चलवासी, खानाबदोश
 Nomadic—यायावर, चलवासी
 Nomadism—यायावरता, चलवासिता
 Nonadaptive—अननुकूलनी
 Non-conductor—अचालक
 Non-contractile—अकुंचनशील
 Non-metallic—अधात्विक
 Non-poisonous—विषहीन, निर्विष
 Non-resistant—अप्रतिरोधक
 Norm—मानक
 Normal—प्रसामान्य, प्राकृत, मानक सामान्य, साधारण
 Normality—प्रसामान्यता
 Normative—मानकी
 Notation—संकेतन, अंकन, अंकन-पद्धति
 Nuclear—केंद्रक, केंद्रकीय, नाभिकीय
 Nucleus—केंद्रक
 Null—शून्य

Number—संख्या
 Numeral (*n.*) संख्यांक; (*adj.*) संख्यात्मक
 Numerator—अंश
 Numerical—संख्यात्मक
 Nutrient—पोषक
 Nutriment—पोषक आहार
 Nutrition—पोषण
 Nutritive—पोषक

O

Oasis—नखलिस्तान, मरुद्धान
 Object—वस्तु, पिंड
 Objective—वस्तुनिष्ठ
 Oblique—तिर्यक, तिरछा
 Obliquity—तिर्यकता, तिरछापन
 Oblong—आयतरूप, दीर्घायत
 Observation—प्रेक्षण
 Observatory—वेधशाला
 Observer—प्रेक्षक
 Obsolescent—लुप्तप्राय
 Obsolete—लुप्त
 Obstacle—अवरोध
 Obtuse—कुंठाग्र
 Occipital—अनुकपाल
 Occult—गूढ़
 Occupance—अधिष्ठान
 Occupation—व्यवसाय
 Occupational—व्यावसायिक
 Oceanic—महासागरी
 Oceanography—समुद्र-विज्ञान
 Ochre—नैरिक
 Octagon—अष्टभुज
 Octahedral—अष्टफलकीय
 Octahedron—अष्टफलक
 Octave—अष्टक
 Octopod—अष्टपाद
 Octopus—अष्टभुज
 Ocular—चाक्षुष
 Odd—विषम
 Odour—गंध
 Oestrus—कामोन्माद
 Offshoot—प्रशाखा
 Oil—तैल, तेल
 Ointment—मरहम
 Olfactory—घ्राण
 Olive—जैतून
 Omnibus—बस
 Omnivorous—सर्वाहारी
 Ooze—रिसना

Oozing—स्पंदन
Opal—द्विविधा पत्थर
Opacity—अपारदर्शिता, अपार्यता
Opaque—अपारदर्शी, अपार्य
Open—खुला, विद्युत
Opening—मुख
Operation—प्रचालन, संक्रिया, चीर-
फाड़, शल्य-क्रिया
Operative—क्रियात्मक, क्रियाकारो
Operator—प्रचालक
Opium—अफीम, अहिफेन
Opposing—विरोधी
Opposite—सम्मुख, विपरीत
Optic—दृक्, प्रकाशिक
Optical—प्रकाशीय, प्रकाशिक
Optics—प्रकाशिकी, प्रकाश-विज्ञान
Optimum—अनुकूलतम, इष्टतम
Oval—मुखी, मौखिक, मुख
Orb—खगोलीय गोला या विंद
Orbit—अक्षा
Orbital—अक्षक
Order—क्रम, कोटि
Ordered—क्रमित
Ore—अयस्क
Organ—अंग
Organic—कार्बनिक, जैव
Organisation—संगठन
Orifice—मुख, रंध्र, द्वार
Origin—उद्गम, उद्भव, उत्पत्ति
Original—प्रारंभिक, मूल, मौलिक
Ornamentation—अलंकार, अलंकरण
Orographic—पर्वती
Orography—पर्वत-विज्ञान
Orpiment—हरताल
Oscillating—दोलायमान
Oscillation—दोलन
Osteology—अस्थिविज्ञान
Ostrich—शूतुरमूर्ग,
Outlet—निर्गम, निकास
Outline—रूपरेखा
Output—निर्गम, निर्गत, उत्पादन
Outskirt—बहिर्भाग, सीमांत
Ova—अंडाणु
Ovarian—अंडाशय, अंडाशयी
Ovary—अंडाशय
Oven—आंवा, भट्टी
Over-cooling—अतिशीतन
Overgrowth—अतिवृद्धि, अधिवृद्धि
Overload—अतिभार
Overloaded—अतिभारित

Overseas—समुद्रपार
Overtone—अविस्वरता
Oviparous—अंडज, अंडप्रजक
Ovule—बीजांड
Ovum—डिम्ब
Oxygen—आक्सीजन
Oyster—सूक्ति, सीप

P

Pack animal—भारवाही या लहू पशु
Paint—प्रलेप
Pair—युग्म, युगल
Pairing—युग्मन
Palaeontology—जीवाश्म-विज्ञान
Palatal—तालु, तालव्य
Palate—तालु, अधरिका
Pallid—पांडु
Palm (*Bot.*) ताल, ताड़ (*Zool.*)
हथेली, करतल
Palpable—स्पर्श्य
Pancreas—अग्न्याशय
Pancreatic—अग्न्याशयी
Pangamy—यदृच्छा-संगमन
Panicle—पुष्प-गुच्छ
Parabola—परवलय
Parabolic—परवलयिक
Parachute—अवतरण-छत्र
Paradox—विरोधाभास
Parallel—समांतर
Parallelism—समांतरता
Parallelogram—समांतर-चतुर्भुज
Parasite—परजीवी
Parasitic—परजीवित
Parasitism—परजीवित
Parasitology—परजीवी-विज्ञान
Parchment—चर्म-पत्र
Parent—जनक, मूल
Parental—जनकीय, पैत्रिक
Parenthesis—कोष्ठक, बंधनी
Parietal—भित्तीय
Parity—समता, जातीयता
Part—भाग, अंश
Partial—आंशिक, खंड
Particle—कण, तिनका
Particular—विशेष, विशिष्ट
Parting—विसंधि, विभाजन
Partition—विभाजन, वितरण
Partner—सहभागी, साझेदार
Partnership—सहभागिता, साझा

Partridge—तीतर
Parturition—प्रसव
Passive—निष्क्रिय
Patch—चकती
Path—पथ
Pathogen—रोगजनक
Pathogenic—रोगजनक
Pathogenetic—रोगजनक
Pathogenous—रोगजनक
Pathological—रोग-विज्ञान संबंधी
Pathology—रोग-विज्ञान
Patrimony—पैतृक धन या संपत्ति
Pattern—प्रतिरूप, ढाँचा, चित्र,
आकृति, प्रतिमान
Peacock—मोर, मयूर
Peak—शिखर
Pear—नाशपाती
Pearl—मुक्ता, मोती
Pearly—मौक्तिक, मोतिया
Pedal—पदिक
Pedestal—पीठिका
Pedicle—पुष्पवृंत
Peduncle—वृंतक
Pelvic—श्रोणीय
Pelvis—श्रोणि, वास्ते
Pendulum—लोलक
Penetrating—वेधी, अंतर्वेधी
Penetrant—वेधी
Penetration—वेधन, प्रवेश
Pentagon—पंचभुज
Pentagonal—पंचभुजीय
Percent—प्रतिशत
Percentage—प्रतिशतता
Perceptibility—अवगम्यता
Perception—अवगम
Percolating—अंतःस्रावी
Percolation—अंतःस्रवण
Percussion—आघात
Perennial—बहुवर्षी, चिरस्थायी
Perfect—पूर्ण, परिपूर्ण, आदर्श, यथास्त-
Perforate—छिद्री
Perforated—सछिद्र, छिद्रित
Perforation—छिद्र, छिद्रण
Pericardiac—हृदयावरणी
Pericardia—हृदयावरणी
Pericardium—हृदयावरण
Perimeter—परिमाण
Period—अवधि, काल
Periodic—आवर्ती
Periodical—आवर्ती

Periodicity—आवर्तिका
 Peripheral—परिधीय
 Periphery—परिधि
 Permanent—स्थायी, चिरस्थायी
 Permeability—पारगम्यता, चुंबकशीलता
 Permeable—पारगम्य
 Permissible—अनुमेय
 Perpendicular—लंब
 Perpendicularity—लंबता
 Perpetual—शाश्वत, सतत
 Personal—व्यक्तिगत
 Perspective—संदर्भ
 Pervious—प्रवेश्य
 Pest—नाशक जीव, नाशक रोग
 Petal—दल, पंखुड़ी
 Petiole—वृंत, पर्ण-वृंत
 Petrel—समुद्रकाक
 Petrified—अश्मीभूत
 Petrification—अश्मीभवन
 Petrography—शैलवर्णना
 Petrology—शैल-विज्ञान
 Petrologist—शैल-वेत्ता
 Phalanx—अंगुलास्थि
 Pharmaceutical—औषधीय
 Pharmacy—औषधशाला, औषध-निर्माण-विज्ञान
 Phase—कला, प्रावस्था
 Phono—ध्वनि
 Photo—प्रकाश
 Physical—भौतिक, प्राकृतिक
 Physicist—भौतिक-विज्ञानी
 Physics—भौतिकी
 Physiognomy—रूप
 Physiography—भू-आकृति-विज्ञान
 Physiology—शरीर-क्रिया-विज्ञान
 Physique—शरीर-गठन
 Phytophagous—पादपभोजी, पदापभक्षी
 Pictorial—चित्रमय
 Piercing—वेधन
 Pig iron—कच्चा लोहा
 Pigment—वर्णक
 Pigmentation—वर्णकता
 Pillar—स्तंभ
 Pine—चीड़
 Pink—गुलाबी
 Pinnacle—शिखरिका
 Pipe—नल, नाल, नली, नलिका
 Pisciculture—मत्स्य-पालन
 Pistil—स्त्री-केसर
 Pit—मज्जा

Pituitary—पीयब
 Pivot—धुराग्र, कीलक
 Pivotal—धुराग्रीय
 Plain—मैदान, सपाट
 Plan—नक्शा, आयोजना
 Plane—तल, समतल
 Planet—ग्रह
 Planetary—ग्रहीय
 Planetoid—सूक्ष्मग्रह
 Plant—पादप, पौधा, वनस्पति; संयंत्र
 Plasma—जीवद्रव्य
 Plastic—सुघट्य
 Plasticity—सुघट्यता
 Plate—पट्टिका, पट
 Plateau—पठार
 Plating—पट्टन, विद्युत्-लेपन
 Pleur—फुफ्फुसावरण
 Pliability—आनम्यता
 Pliable—आनम्य
 Plumb—साहुल
 Plus—घन
 Pocket—कोशिका
 Pod—फली, शिब
 Point—बिंदु, अंक
 Points—संकेतक, सूचक
 Poisoning—विषाक्तन
 Poisonous—विषाक्त
 Polar—ध्रुवीय
 Polarisation—ध्रुवन
 Polarised—ध्रुवित
 Polarity—ध्रुवता
 Pole—ध्रुव
 Polestar—ध्रुवतारा
 Polish—पालिश
 Political—राजनीतिक
 Pollen—पराग
 Pollination—परागण
 Pollution—प्रदूषण
 Poly—बहु
 Polyandrous—बहुपतिका
 Polyandry—बहुपतित्व
 Polygon—बहुभुज
 Polygonal—बहुभुजी
 Polygonial—बहुभुजी
 Population—जनसंख्या
 Pore—रंध्र, छिद्र
 Porosity—सरंध्रता
 Porous—सरंध्र, सरंध्री
 Portal—प्रवेश द्वार
 Portrait—रूपचित्र

Position—स्थिति, स्थल, स्थान
 Positive—घनात्मक, घन, सकारात्मक
 Possibilism—संभाव्यतावाद
 Possibility—संभाव्यता
 Possible—संभव, संभाव्य
 Posterior—पश्च
 Posture—आसन, संस्थिति
 Potency—शक्ति
 Pouch—कोष्ठ
 Power—सामर्थ्य, क्षमता, शक्ति
 Practical—प्रयोगात्मक, प्रायोगिक, व्यावहारिक
 Precious—बहुमूल्य
 Precipice—खड़ी चट्टान
 Precise—परिशुद्धता, परिशुद्धि
 Precursor—पूर्वगामी
 Prediction—प्राग्विकि
 Pre-existing—पूर्ववर्ती
 Preferential—वरणात्मक
 Prehistoric—प्रागैतिहासिक
 Preliminary—प्रारंभिक
 Preservation—परिरक्षण
 Preservative—परिरक्षक
 Pressure—दाब
 Prevention—निरोध
 Preventive—निरोधी, निरोधक
 Price—मूल्य, भाव
 Primary—आद्य, प्रथम, प्राथमिक, मुख्य, प्रधान, मूल
 Prime—अभाज्य, प्रधान
 Primitive—आदिम, आद्य, आदि
 Primordial—आद्य, आदिकालिक, मौलिक
 Principal (*adj.*) मुख्य; (*n.*) मूलधन
 Principle—नियम
 Priority—अग्रता
 Probability—प्रायिकता
 Probable—प्रायिक
 Problem—प्रश्न, समस्या, निर्मेय
 Proboscis—शुंड, शुंडिका
 Procedure—प्रक्रिया
 Process—प्रक्रम
 Product—उत्पादन, गुणनफल
 Production—उत्पादन
 Productive—उत्पादक
 Productivity—उत्पादकता
 Progenitor—प्रजनक
 Progeny—संतति
 Progress—प्रगति
 Progressive—प्रगामी, वर्धमान
 Project—प्रायोजना

Projectile—प्रक्षेप्य
 Projection—प्रक्षेप, प्रक्षेपण
 Projective—प्रक्षेपीय
 Proletariat—श्रमजीवी
 Proof—प्रमाण, उपपत्ति
 Propagation—प्रवर्धन
 Property—गुण, गुणधर्म, संपत्ति
 Proportion—समानुपात, अनुपात, प्राग
 Proportional—समानुपाती, अनुपातिक
 Proposition—साध्य
 Prostrate—शयान
 Protectant—रक्षक
 Protecting—रक्षी
 Protection—रक्षण
 Protective—रक्षी, संरक्षक, रक्षण
 Protoplasm—जीवद्रव्य
 Prototype—आदिप्ररूप
 Protuberance—उद्वर्ध
 Proximal—समीपस्थ, निकटस्थ
 Proximity—सामीप्य
 Pseudo-form—छद्म रूप, आभासी रूप
 Psychology—मनोविज्ञान
 Pubescent—रोमिल
 Pull—कर्षण
 Pulley—घिरनी, चरखी
 Pulmonary—फुफफुसी
 Pulp—मज्जा, गूदा, लुगदी
 Pulsance—स्पंदता
 Pulsating—स्पंदमान
 Pulsation—स्पंदन
 Pulse—स्पंद, नाड़ी
 Pulverisation—पेषण, पीसना, चूर्णन
 Pungent—तीखा
 Pupil—तारा, पुतली, कतीनिका
 Pure—शुद्ध
 Purgative—रेचक
 Purification—शोधन, निर्मलीकरण, स्वच्छीकरण
 Purified—शोधित
 Purify—शोधन करना
 Purity—शुद्धता
 Purple—नील-लोहित, वैगर्ग
 Pustular—स्फोट पूर्ण
 Pustule—स्फोट
 Putrefaction—पूयन, सड़ान
 Putrefy—सड़ना, पूयित होना
 Putrescent—पूतिमान
 Pygmy—वामन, बौना
 Pyramidal—पिरैमिडी
 Pyrene—गुठली

Pyrogenetic—अग्निजात
 Pyrometer—उत्तापमापी
 Pyrometry—उत्तापमिति
 Pyrosphere—उत्तापमंडल
 Python—अजगर

Q

Quadrangle—चतुर्भुज
 Quadrangular—चतुर्भुजी
 Quadrant—चतुर्थांश
 Quadratic—वर्ग, द्विघात, द्विघाती
 Quadric—द्विघाती
 Quadrilateral—चतुर्भुज
 Quadruped—चतुष्पाद, चौपाया
 Quadruple—चतुर्गुण
 Quadruplet—चतुष्क
 Quagmire—दलदल
 Quail—बटर
 Qualitative—गुणात्मक
 Quality—गुण, विशेषता, गुणता
 Quantic—समघाती
 Quantile—विभाजक
 Quantitative—मात्रात्मक, परिमाणात्मक
 Quantity—मात्रा, परिमाण
 Quarantine—संगरोध
 Quarry—खुली खान
 Quarter—चतुर्थांश, चौथाई
 Quartic—चतुर्घाती
 Quartile—चतुर्थक
 Quartz—स्फटिक
 Quasi—अर्ध
 Quaternary—चतुष्क, चतुर्थ
 Quay—जहाजी घाट
 Quench—शमन करना, बुझाना
 Quicksand—चोट रेत
 Quicksilver—पारा, पारद
 Quiescent—शांत
 Quinine—कुनैन
 Quintuplet—पंचक
 Quotation—निवेदित दर या मूल्य
 Quotient—भागफल

R

Race—प्रजाति
 Racial—प्रजातीय
 Radial—त्रिज्य
 Radiant—विकिरणी, विकिरण
 Radiated—विकीर्ण

Radiation—विकिरण
 Radiology—विकिरण चिकित्सा-विज्ञान
 Radius—त्रिज्या
 Railroad—रेल मार्ग
 Railway—रेलमार्ग, रेलवे, रेल
 Rancid—विकृतगंधी
 Random—यादृच्छिक, संयोगिक, अनियमित
 Rank—कोटि
 Rare—दुर्लभ
 Rarefaction—विरलन, विरलता
 Rarefied—विरलित
 Raspberry—रसभरी
 Rate—दर
 Ratio—अनुपात
 Rational—परिमेय
 Rationalisation—परिमेयकरण
 Ravine—खड्ड
 Raw—कच्चा
 Ray—रश्मि, किरण
 Reactance—प्रतिघात
 Reactant—अभिकारक
 Reaction—प्रतिक्रिया
 Reactive—अभिक्रियाशील
 Reactivity—प्रतिक्रिया क्षमता
 Readings—पाठ्यांक
 Reagent—अभिकर्मक
 Real—वास्तविक
 Realm—परिमंडल
 Reason—हेतु
 Recapitulation—पुनरावर्तन
 Receiver—ग्राही, अभिग्राही
 Receiving—ग्राही, अभिग्राही
 Receptacle—पात्र
 Reception—अभिग्रहण
 Receptor—ग्राही
 Recessive—अप्रभावी
 Reciprocal—अन्योन्य, पारस्परिक
 Reclamation—भूमि उद्धार
 Recline—अवनत
 Recoil (n.)—प्रतिक्षेप; (adj.) प्रतिक्षिप्त
 Reconciliation—समाधान
 Reconcilable—समावेद्य
 Record—अभिलेख
 Recorder—अभिलेखी
 Recording—अभिलेखन
 Recovery—उपलब्धि, प्राप्ति, पुनः प्राप्ति
 Rectal—मलाशयी
 Rectangle—आयत
 Rectangular—आयताकार, सम-कोणिक, समकोणीय

Rectilinear—सरलरेखी, सरल-
रेखात्मक
 Rectum—मलाशय
 Recumbent—शयान
 Recurrence—पुनरावृत्ति
 Recurrent—पुनरावर्ती, प्रत्यावर्ती
 Recurring—आवर्त, आवर्ती
 Reddish—रक्ताभ
 Reduction—लघुकरण, न्यूनीकरण
 Reef—भित्ति, शैल-भित्ति
 Reference—निर्देश
 Refinement—शोधन, परिष्करण
 Refinery—परिष्करण-शाला
 Refining—शोधन, परिष्करण
 Reflectance—परावर्तकता
 Reflected—परावर्तित
 Reflection—परावर्तन
 Reflectivity—परावर्तकता
 Reflector—परावर्तक
 Reflex angle—वृहत् कोण
 Refraction—अपवर्तन
 Refractivity—अपवर्तकता
 Refrigerant—प्रदानिक
 Refrigerate—प्रशीनित करना
 Refrigeration—प्रशीवन
 Regeneration—पुनरुद्भवन
 Regime—शासन, प्रवृत्ति
 Region—प्रदेश, क्षेत्र
 Regional—प्रादेशिक
 Regionalism—प्रादेशिकता
 Regular—नियमित
 Regulate—नियंत्रण करना
 Regulation—नियंत्रण
 Regulator—नियंत्रक
 Reinforced—प्रबलित
 Reinforcement—प्रबलीकरण, प्रबलन
 Relapse—पुनरावर्तन
 Related—संबंधित
 Relation—संबंध
 Relative—आपेक्षिक, सापेक्ष
 Relativistic—आपेक्षिकीय
 Relativity—आपेक्षिकता
 Release—मोचन
 Released—निर्मुक्त
 Relic—अवशेष
 Relict—अवशिष्ट
 Remainder—बाकी, शेष, शेषफल
 Remains—अवशेष
 Remote—सुदूर
 Removable—अपनेय

Removal—निष्कासन, अपनयन
 Renewal—वृक्कीय
 Renewal—नवीकरण
 Reniform—वृक्काकार
 Repair—सुधार
 Repeated—बारंबार
 Repetition—पुनरावृत्ति
 Replaceable—प्रतिस्थापनीय
 Replacement—प्रतिस्थापन
 Replenishment—पुनःपूर्ति
 Replica—प्रतिकृति
 Replicate—दोहरा
 Replication—प्रतिकृति, पुनरावृत्ति
 Report—प्रतिवेदन
 Represent—निरूपित करना, निरूपण
करना
 Representation—निरूपण
 Representative (n.) प्रतिनिधि;
(adj.) निरूपक
 Reproduction—पुनरुत्पादन
 Reproductive—जननीय, जनन-
 Reptile—सरीसृप
 Requisite—आवश्यक
 Research—अनुसंधान
 Researcher—अनुसंधायक
 Residual—अवशिष्ट
 Residue—अवशेष
 Resistance—प्रतिरोध, प्रतिरोधन
 Resistant—प्रतिरोधक, प्रतिरोधी
 Resistivity—प्रतिरोधकता
 Resistor—प्रतिरोधक
 Resonance—अनुनाद
 Resonant—अनुनादी
 Resonator—अनुनादक
 Resources—साधन, संपदा
 Respectively—क्रमानुसार, क्रमशः
 Respiration—श्वसन, श्वासोच्छ्वास
 Respiratory—श्वसन-
 Response—अनुक्रिया
 Rest—विराम
 Restless—अशांत
 Restoration—पुनःस्थापन
 Result—परिणाम, फल, नतीजा
 Resultant—परिणामी
 Resurgence—पुनरुत्थान
 Retentive—धारणशील
 Retentiveness—धारणशीलता
 Retentivity—धारणशीलता
 Retina—दृष्टिपटल
 Retort—भसका

Retractable—आकुंचनशील
 Retractor—आकुंचक
 Reversal—उत्क्रमण
 Reverse—उत्क्रम
 Revolution—परिक्रमण
 Revolving—परिक्रामी
 Rhomb—समचतुर्भुज
 Rhomboidal—चतुष्कोणी
 Rhombus—समचतुर्भुज
 Rhythm—लय, ताल
 Rib—शिरा, पसली, पशुका
 Ridge—कटक
 Rigid—दृढ़
 Rigidity—दृढ़ता
 Ring—वलय
 Riparian—नदतटीय
 Riverain—नदतटीय
 Riverine—नदीय
 Road—सड़क, मार्ग
 Rock—शैल, चट्टान
 Rocky—शैलमय, शैलीय, चट्टानी,
पथरीला
 Rod—शलाका, दंड, छड़
 Root—मूल, जड़
 Rotary—घूर्णी
 Rotate—घूर्णन करना, घूमना
 Rotating—घूर्णी
 Rotation—घूर्णन
 Rotational—घूर्णी, घूर्णात्मक
 Rotator—घूर्णी
 Rotatory—घूर्णी
 Rough—रूक्ष, स्थूल
 Route—मार्ग
 Rubber—रबड़
 Ruby—पद्मराग, माणिक्य, लाल, मरकत
 Rule—नियम
 Ruling—रेखांकन
 Ruminant—रोमंथी
 Rumination—रोमंथन
 Rural—ग्रामी
 Rust—मोरचा, जंग
 Rut—मदकाल

S

Sac—थैली, कोश
 Sacved basil—तुलसी
 Saddle—पल्याण, काठी
 Safety—निरापद
 Saffron—केसर

Saline—नमकीन, लवणीय, खारा
 Salinity—खारापन
 Salinometer—लवणमापी
 Saliva—लार, लाला
 Salivarium—लालाशय
 Salivary—लाला-
 Salt—लवण
 Salting—लवणन
 Saltness—लवणता
 Saltpetre—शोरा
 Sample—प्रतिदर्श, नमूना
 Sand—बालू, रेत
 Sandstone—बालुकारस, बलुआ पत्थर
 Sandy—बलुई
 Saponification—साबुनीकरण
 Sapphire—नीलम
 Sapwood—रसहास
 Sarcophagous—मांसमोगी
 Satellite—उपग्रह
 Saturated—संतृप्त
 Saturate—संतृप्त करना
 Saturation—संतृप्ति, संतृप्तीकरण
 Saturn—शनि
 Saw—आरी, आरा
 Scalariform—सीढ़ीनुमा
 Scale—मापनी, पैमाना
 Scansorial—आरोही
 Scar—क्षत-चिह्न
 Scarcity—न्यूनता, कमी
 Scariose—झिल्लीनुमा
 Scarious—झिल्लीनुमा
 Scarlet—सिद्धरी
 Scarp—कगार
 Scarplet—कगारिका
 Scatter—प्रकीर्णन
 Scattered—प्रकीर्ण
 Scattering—प्रकीर्णन
 Scent—गंध
 Sciatic—नितंब
 Science—विज्ञान
 Scion—कलम
 Sclerosis—ऊतक दृढ़न
 Scorpion—विच्छू, वृश्चिक
 Scrapings—चुरचन
 Screen—परदा, आवरण
 Screw—पच
 Scum—मल
 Sea—सागर, समुद्र
 Seal—बंद करना, मोहर लगाना,
 मुंह बंद करना

Scaled—बंद किया हुआ, मुद्रित
 Search—खोज
 Season—ऋतु, मौसम
 Seasonal—मौसमी
 Secant—छेदक, छेदक रेखा
 Secondary—गौण, माध्यमिक
 Secretion—स्रवण, स्राव
 Secretary—स्रावी
 Sectile—छेद्य
 Section—काट, परिच्छेद, खंड, धारा,
 विभाग
 Sediment—तलछट, अवसाद
 Sedimentary—तलछटी, अवसादी
 Sedimentation—अवसादन
 Seed—बीज
 Seedling—पौध, बहन
 Segment—खंड
 Segmental—खंड युक्त, सखंड
 Segmented—खंडित
 Segregation—पृथक्करण
 Seismic—भूकंपी
 Seismo—भूकंप-
 Selected—चरित
 Selection—चरण
 Selective—चरणात्मक
 Selectivity—चरण-क्षमता
 Selenography—चंद्र-भूगोल
 Self—स्वतः, स्व, स्वयं
 Semi—अर्ध
 Semen—पुक्र
 Seminal—शुक्रिय
 Senses—जीर्णता
 Senscent—जीर्णमान
 Sensation—संवेदन
 Sense—संवेद
 Sensible—संवेद्य
 Sensile—संवेदिका
 Sensitive—संवेदी, संवेदनशील
 Sensitivity—संवेदनशीलता
 Sensory—संवेदी
 Separation—पृथक्करण, पृथक्मवन,
 पार्थक्य, अंतराल
 Septal—पट्टीय
 Septum—पट
 Sequence—अनुक्रम
 Sequent—अनुवर्ती
 Sequential—अनुक्रमिक
 Serial—क्रमिक
 Seriate—परित्यक्त
 Sericulture—रेशम उत्पादन

Series—श्रेणी, माला
 Set—समुच्चय
 Setiform—शूकाकार
 Sewer—मल-नल
 Sex—लिंग
 Sexual—लैंगिक, यौन
 Sexuality—लैंगिकता
 Shade—छाया, छटा
 Shallow—छिछला, अगंभीर
 Shape—आकृति, आकार, रूप
 Share—अंश, भाग
 Sharp—तीक्ष्ण, तीव्र
 Sharpness—तीक्ष्णता, तीव्रता
 Sheath—आच्छद, कोष
 Sheet—चादर
 Sheeted—चादरी
 Shell—कवच, खोल, कोश
 Shellac—चपड़ा, लाख
 Shipment—नौप्रैपण, नौभार
 Shock—घक्का, प्रघात
 Shoot—प्ररोह
 Short sight—निकट-दृष्टि
 Short wave—लघु तरंग
 Shot—विस्फोट
 Shower—बौछार, वर्षण
 Shrinkage—संकुचन
 Shrub—क्षुप, झाड़ी
 Side—पार्श्व
 Sidereal—नाक्षत्र
 Sieve—चालनी, छत्री
 Sight—दृष्टि, दृश्य
 Sign—चिह्न
 Signal—संकेत
 Significance—सायंकता
 Significant—सायंक
 Silence—नीरवता
 Silky—रेणमी
 Silver—चांदी, रजत
 Silvered—रजतित
 Silvering—रजतन
 Similar—समरूप
 Similarity—समरूपता
 Similitude—सादृश्य
 Simple—सरल, साधारण, नाश
 Simplification—सरलीकरण
 Simplify—सरल करना
 Simultaneity—समकालिता, समकाल
 Simultaneous—समकालीन, समकाल
 Sine—ज्या
 Single—एकल, अकेला, एकल

Singular—विचित्र
 Singularity—विचित्रता
 Sinistral—वामावर्त
 Sinuous—लहरदार
 Sinus—कोटर
 Skeletal—कंकाली
 Skeleton—कंकाल, अस्थि-पंजर, पंजर
 Sketch—रेखाचित्र
 Skim—काछना, मल उतारना, मलाई तारना
 Skimmed milk—मखनिया दूध
 Skull—खोपड़ी
 Sky-blue—नभोनील
 Skyscraper—गगनचुंबी भवन
 Skag—कोह, धातुमल
 Slake—बुझाना
 Slaked lime—बुझा चूना
 Slaggy—धातुमलीय
 Slant—तिर्यक् तिरछा
 Slope—ढलान, ढाल
 Sloping—ढलवाँ
 Slump—अवपात
 Smoke—धूम, धुआँ
 Smooth—चिकना
 Snail—घोंघा
 Snow—हिम
 Soak—भिगोना
 Soap—साबुन
 Social—सामाजिक
 Sociology—समाज-विज्ञान
 Soft—मृदु, नरम, कोमल
 Soil—मिट्टी, मृदा, भूमि
 Solar—सौर
 Sofar system—सौर परिवार
 Solder—टाँका, झाल
 Solid—ठोस, घन
 Solidification—जमना, पिडन, जमाना
 Solidify—जमना, पिडित होना, जमाना
 Solitary—अकेला, एकल
 Solstice—अपनांत, संक्रान्ति
 Solubility—विलेयता, विलनशीलता, घुलनशीलता
 Solubilize—विलेयीकरण
 Soluble—विलेय
 Solute—विलेय
 Solution—साबन, हल
 Solve—हल करना, समाधान करना
 Sonorous—ध्वानिक
 Sound—ध्वनि, शब्द
 Sounding—गहराई नापना, गंभीरता

मापन
 Sour—खट्टा, अम्ल
 Source—उद्गम, स्रोत
 Space—आकाश, अंतरिक्ष, दिक्, स्थान, समष्टि; (*adj.*) आकाशीय
 Spacing—अंतरण, अंतराल
 Spark—चिनगारी, स्फुलिंग
 Spatial—आकाशीय, स्थानिक
 Spawn—जलांडक, अंडजनन
 Special—विशिष्ट, विशेष
 Specialization—विशिष्टीकरण
 Species—जाति
 Specific—आपेक्षिक, विशिष्ट, विशेष
 Specificity—विशिष्टता
 Specified—निर्दिष्ट
 Specimen—प्रतिरूप, निदर्श, नमूना
 Speed—चाल
 Sperm—शुक्राणु
 Spermary—शुक्रग्रंथी
 Spermatogenesis—शुक्रजनन
 Sphere—गोला
 Spherical—गोलाकार, गोलीय
 Spheroid, Spheroidal—गोलाम
 Spine—रीढ़, मेरुदंड
 Spinescent—शूलाग्री
 Spinous—शूलमय
 Spiral—सर्पिल
 Spleen—प्लीहा, तिल्ली
 Splendent—दीप्तिमान
 Split—विभक्त
 Spontaneity—स्वतःप्रवर्तित
 Spontaneous—स्वतः, स्वतः प्रवर्तित
 Spore—बीजाणु
 Spot—बिंदु, घब्बा
 Spotted—चकत्तेदार
 Spray—फुहार
 Spring—कमानी
 Sprouting—अंकुरण
 Spurious—मिथ्या
 Square—वर्ग
 Square root—वर्गमूल
 Stable—स्थायी
 Stabilized—स्थायीकृत
 Stability—स्थायित्व
 Stabilization—स्थायीकरण
 Stabilizer—स्थायीकारी
 Stage—मंच, अवस्था
 Stagnant—बँधा, रुद्ध
 Stagnation—प्रगतिरोध
 Stalk—वृत्त

Stamen—पुंकेसर
 Standard—मानक, प्रामाणिक
 Standardized—माननीकृत
 Standardization—माननीकरण
 Staple (*n.*)—रेशा; (*adj.*) प्रमुख
 Stargish—तारामीन
 Starter—प्रवर्तक
 State—स्थिति, अवस्था
 Static—स्थिर, स्थैतिक
 Statics—स्थिति-विज्ञान, स्थैतिकी
 Stationary—अचल, अप्रगामी, स्तब्ध, अचल
 Statistical—सांख्यिकीय
 Statistician—सांख्यिकीविद्
 Statistics—सांख्यिकी
 Steady—अपरिवर्ती, अचर
 Steel—इस्पात, फौलाद
 Steep—सीधा ढाल, खड़ा ढाल
 Stellar—तारकीय
 Stem—स्तंभ, तना
 Stereo—त्रिविम
 Sterile—वंच्य, वांझ
 Sterility—वंच्यता, वांझपन
 Sterilization—वंच्यकरण
 Sternum—उरोस्थि
 Stigmatic—विदुक्
 Stigmatism—विदुक्ता
 Sting—दंश, डंक
 Stomach—जठर, आमाशय
 Stone—अष्टि, गुठली
 Stopper—डाट
 Storm—झंझावात तूफान
 Straight—ऋजु, सीधा, सरल
 Strainer—छन्ना
 Stratification—स्तरण, स्तरविन्यास
 Stratified—स्तरित
 Stratify—स्तरित होना
 Stratum—स्तर
 Stream—सरिता, धारा
 Stream line—प्रवाह-रेखा, धारा-रेखा
 Strength—सामर्थ्य
 Stress—प्रतिबल
 Stria—रेखांकन, खरोच
 Striate—रेखित, धारीदार
 Striation—रेखांकन, पट्टी, धारी
 Stridulation—घर्षण-ध्वनि
 String—रज्जु, तार, डोर, डोरी, सूत्र
 Striped—रेखित, धारीदार
 Strong—प्रबल, बलवान्

Structural—संरचनात्मक
 Structure—संरचना
 Study—अध्ययन
 Stump—ठूठ
 Styliform—शूकाकार
 Subclass—उपवर्ग
 Subdivided—प्रविभाजित
 Subdivision—प्रविभाजन
 Sub—अव; उप
 Subjective—व्यक्तिनिष्ठ
 Submarine—पनडुब्बी
 Submerged—निमग्न
 Submersion—निमज्जन
 Subsequent—परवर्ती
 Subsidiary—गौण, सहायक
 Sub-species—उपजाति
 Substitute—प्रतिस्थापन करना, प्रति-
 स्थापित करना
 Substituent—प्रतिस्थापी
 Substitution—प्रतिस्थापन
 Substratum—अवःस्तर, आधार
 Subtended—कांक्षांतरित, अंतरित
 Subtract—व्यवकलन, घटाना
 Subtraction—व्यवकलन, घटाना
 Suburb—उपनगर
 Subway—सुरंगपथ
 Succession—अनुक्रम, अनुक्रमण
 Successional—अनुक्रमिक
 Successive—उत्तरोत्तर
 Successively—उत्तरोत्तर
 Succulent—गूदेदार रसदार
 Suck—चूसना
 Sucker—चूषक
 Sucking—चूषण
 Sucrose—ईक्षु-शर्करा
 Suction—चूषण
 Sufficiency—पर्याप्तता
 Sulphur—गंधक
 Sulphurous—गंधकी
 Sum—योगफल, जोड़
 Summarization—संक्षेपण
 Summation—संकलन
 Summit—शिखर
 Sun-spot—सूर्य-कलंक
 Sunflower—सूरजमुखी, सूर्यमुखी
 Sunstone—सूर्यकांत
 Supercooling—अतिशीतलन
 Superficial—पृष्ठीय
 Superfine—अतिसूक्ष्म
 Supergiant—महादानव

Superheating—अतितापन
 Superinposition—अध्यारोपण
 Superior—ऊर्ध्व, ऊर्ध्ववर्ती
 Supersonic—पराध्वनिक
 Supination—उत्तानन
 Supine—उत्तान
 Supplement—संपूरक
 Supplementary—संपूरक
 Supply—संभरण
 Support—टेक, आचार
 Supposed—काल्पित
 Supposition—कल्पना
 Suppressed—विरुद्ध
 Suppressor—निरोधी
 Surface—पृष्ठ, बहिस्तल सतह
 Surge—महोत्थि
 Surgery—शल्य कर्म, शल्य-विज्ञान
 Survey—सर्वेक्षण
 Surveying—सर्वेक्षण
 Survival—उत्तरजीविता, अतिजीविता
 Suspended—निलंबित, लटका हुआ
 Suspension—निलंबन
 Suspensor—निलंबक,
 Suspensory—निलंबक, निलंबन
 Swarm—दल, वृंद, झुंड
 Swelling—फूलना, शोथ, सूजन
 Swirl—मंवर
 Symbiosis—सहजीवन
 Symbiont—सहजीवी
 Symbiotic—सहजीवी
 Symbol—प्रतीक
 Symbolical—प्रतीकात्मक
 Symmetrical—सममित
 Symmetry—सममिति
 Symptom—लक्षण
 Synchronisation—तुल्यकालन
 Synchronism—तुल्यकालत्व
 Synchronous—तुल्यकालिक
 Synclinal—अभिनत
 Syncline—अभिनत
 Syngensis—सहजनन
 Syngenetic—सहजात
 Synthesis—संश्लेषण
 Synthetic—संश्लिष्ट, सांश्लेषिक,
 कृत्रिम
 Syrup—शर्बत, चाशनी
 System—निकाय, तंत्र, पद्धति, प्रणाली
 Systematic—क्रमबद्ध
 Systemic—सर्वांगी
 Systole—प्रकुंचन

T

Table—मंच, सारणी
 Tableland—पठार
 Tabular—सारणीबद्ध
 Tabulation—सारणीयन
 Tailed—सपुच्छ
 Tallow—चरबी, पशुवसा
 Tangent—स्पर्शरेखा
 Tangential—स्पर्शरेखीय
 Tap root—मूसला जड़
 Target—लक्ष्य
 Teats—चुचुक
 Technical—तकनीकी, प्राविधि
 Technician—तकनीकज्ञ, प्रविधिज्ञ
 Technique—तकनीक, प्रविधि
 Technology—शिल्प-विज्ञान
 Telescope—दूरबीन, दूरदर्शक
 Telescopic—दूरदर्शी
 Telethermal—दूरतापीय
 Temperate climate—शीतोष्ण जलवायु
 Temperature—ताप, तापमान
 Temporal—कालिक
 Temporary—अल्पकालिक, अस्थायी,
 अल्पस्थायी
 Tendency—प्रवृत्ति
 Tenor—औसत प्रतिशत
 Tensility—तन्यता
 Tension—तनाव
 Tensional—तनाव-मूलक
 Tentacle—स्पर्शक
 Tepid—गुनगुना, अल्पोष्ण
 Termite—दोमक
 Terrace—वेदिका
 Terrestrial—स्थलीय, पार्थिव, भौमिक
 Territorial—प्रादेशिक
 Territory—प्रदेश, क्षेत्र
 Tertiary—तृतीय, तृतीयक
 Test—परीक्षण, परख
 Tetra—चतुष्-
 Tetragonal—चतुष्कोणीय
 Texture—गठन, बुनावट
 Theorem—प्रमेय
 Theoretical—सैद्धांतिक
 Theory—सिद्धांत, वाद
 Thermal—उष्मीय
 Thermion—तापायन
 Thermionic—तापायनिक
 Thermo-electricity—ताप-विद्युत
 Thermometer—तापमापी

Thermoscope—तापदर्शी
 Thoracic—वक्षीय
 Thorax—वक्ष
 Thorn—कंटक, कांटा
 Threshhole—देहली
 Three-dimensional—त्रिविम
 Thunder—मेघगर्जन, गरज
 Tidal—ज्वारीय
 Tide—ज्वार, ज्वार-भाटा
 Tier—सोपान
 Tilage—जोताई
 Tilted—नत
 Time—समय, काल, अवधि
 Timing—काल-मापन
 Tint—आभा
 Tissue—ऊतक
 Tolerance—सहन
 Toothed—दंतुर
 Topographical—स्थलाकृतिक
 Topography—स्थलाकृति
 Torrid zone—उष्ण कटिबंध
 Tortuous—कुटिल
 Total—जोड़, योग
 Touch-me-not—गुलमेंहदी
 Toxic—विषैला
 Toxin—जीव-विष
 Trace—अनुरेख, अनुरेखन
 Tracing—अनुरेखन
 Track—लीथ, पगडंडी, राह, पथ
 Tract—प्रदेश, क्षेत्र
 Trade—व्यापार
 Transference—स्थानांतरण
 Transferred—स्थानांतरित
 Transform—रूपांतर
 Transformation—रूपांतरण, रूपांतर
 Transforming—रूपांतरण
 Transgression—अतिक्रमण
 Transgressive—अतिक्रामी
 Transition—संक्रमण
 Transitivity—संक्रमणता
 Transitory—क्षणिक
 Transmarine—पारसमुद्री
 Transmission—संचरण, पारगमन, प्रेषण, संचारण
 Transmit—प्रेषण करना, संचार करना
 Transmutation—तत्वांतरण
 Transparency—पारदर्शिता, पारदर्शकता, पारदर्शी, चित्र
 Transparent—पारदर्शी, पारदर्शक,
 Transplantation—प्रतिरोपण

Transplanting—प्रातरापण
 Transversal—अनुप्रस्थ, तिर्यक, छेदी रेखा
 Transverse—अनप्रस्थ, आड़ा
 Treatment—विवेचन, उपचार, अमि-
 क्रिया
 Trend—प्रवृत्ति, उपनति
 Trial—जांच, परख
 Triangle—त्रिभुज, त्रिकोण,
 Triangular—त्रिभुजीय, त्रिकोणीय
 Triangulation—त्रिभुजन
 Tribe—आदिम जाति
 Tributary—सहायक नदी
 Trigonal—त्रिकोणीय
 Trigonometric—त्रिकोणमितीय
 Trigonometry—त्रिकोणमिति
 Tripartite—त्रिभागी
 Triple—त्रिगुणा, त्रिधा, त्रि-, त्रिक
 Triploid—त्रिगुणित
 Trisect—समत्रिभाजित करना
 Trisection—समत्रिभाजन
 Trochoidal—चक्रीय, चक्री
 Tropic of cancer—कर्क-रेखा
 Tropic of capricorn—मकर रेखा
 Tropics—अयन-मंडल, उष्ण कटिबंध
 Tropical region—उष्ण कटिबंधीय
 प्रदेश
 True—वास्तविक, यथार्थ, तद्रूप, यथार्थता
 Trunk—कांड, स्तम्भ
 Truth—यथार्थता, सत्यता
 Tube—नली, नलिका
 Tuber—कंद
 Tuberosc—कंदाकार
 Tuberoscous—कंदिल, गांठदार
 Tubular—नलिकाकार
 Tubule—नलिका
 Tumour—अर्बुद
 Tuned—समस्वरित
 Tunnel—सुरंग
 Turbulence—विक्षोभ
 Turbulent—विक्षुब्ध
 Turgid—स्फीत
 Turmeric—हल्दी, हरिद्रा
 Turning point—वर्तन-बिंदु
 Turquoise—फीरोजा
 Turtle—कछुआ, कच्छप
 Twilight—सांध्य प्रकाश
 Twin—यमज
 Twiner—वल्लरी, वल्ली
 Twist—ऐंठन, मरोड़
 Type—प्ररूप

Typical—प्रारूपिक, प्ररूपी

U

Ultimate—चरम, अंतिय
 Ultramarine—समुद्रपार
 Umbel—पुष्पछत्र
 Unassorted—अवर्गित
 Uncertainty—अनिश्चितता
 Unctuous—चिक्कण
 Underground—भूमिगत
 Undermine—तलोच्छेदन
 Undetermined—अनिर्धारित
 Undulate—तरंगित
 Undulating—तरंगित
 Undulation—तरंगण
 Undulatory—तरंगित
 Unequal—असमान
 Uneven—असम, विषम
 Ungrouped—अवर्गीकृत
 Ungulate—खुरदार
 Uni—एक
 Uniform—एकसमान
 Uniformitarianism—एकरूपतावाद
 Uniformity—एकसमानता
 Unilateral—एकपार्श्वी, एक पार्श्विक
 Union—संघ
 Unison—स्वरैक्य, स्वरमेल
 Unit—मात्रक, इकाई, एकक, एकांक
 Unitary—ऐकिक
 Universal—सार्वत्रिक, सार्विक
 Universe—विश्व
 Unknown—अज्ञात
 Unlike—विजातीय, विपरीत
 Unlimited—असीमित
 Unproductive—अनुत्पादक
 Unsaturation—असंतृप्ति
 Unstable—अस्थायी
 Unstratified—अस्तरित
 Upheaval—प्रोलथान
 Upland—अधित्यका, उच्चभूमि
 Uplift—उत्थान
 Upthrow—ऊर्ध्वपात
 Upturned—उलटा
 Urban—नगरीय, शहरी
 Ureter—मूत्रवाहिनी
 Urethra—मूत्रमार्ग
 Urinary—मूत्रीय
 Urine—मूत्र
 Uterus—गर्भाशय

V

Vacuity—फूहर, रिक्तता
 Vacuum—निर्वात
 Vagina—आच्छद, योनि
 Valence, Valency—संयोजकता
 Valid—मान्य
 Validity—मान्यता, वैधता
 Valley—घाटी
 Valorization—मूल्य स्थिरीकरण
 Value—मूल्य, मान
 Vaporisation—वाष्पन
 Vapour—वाष्प
 Variability—परिवर्तनशीलता, परिवर्तितता
 Variable—परिवर्तनशील, परिवर्तन
 Variation—विभिन्नता, विविधता, परिवर्तन
 Variegated—चितकवरा
 Variegation—चितकवरापन
 Variety—किस्म, उपजाति
 Varnish (n.)—वार्निश; (v.) वार्निश करना
 Vary—परिवर्तित होना, विचरित होना
 Varying—परिवर्ती
 Vat—कुंड
 Vegetable—वनस्पति
 Vegetation—वनस्पति, पेड़-पौधे
 Vein—शिरा
 Velocity—वेग
 Vena cava—महाशिरा
 Venation—शिरा विन्यास
 Veneer—पृष्ठावरण
 Venom—विष, जहर
 Venomous—विषैला
 Vent—द्वार, मुख, निकास
 Ventilation—संवातन
 Ventral—अभ्यक्ष
 Verifiable—सत्यापनीय
 Verification—सत्यापन, जांच
 Verify—सत्यापित करना, जांच करना
 Vermicular—कृमिरूप
 Vermiform—कृमिरूप
 Vermilion—सिद्धर
 Vermin—पीड़क जंतु
 Vernalization—वसंतीकरण
 Vertebra—कशेरुक
 Vertebral—कशेरुक

Vertebrate—कशेरुकी
 Vertex—शीर्ष
 Vertical—उर्ध्वाधर, उदग्र, खड़ा
 Vericle—पुटिका
 Vessel—वाहिका
 Vestige—अवशेष
 Vestigial—अवशेषी
 Vibration—कंपन
 Vigour—भोज
 Vinegar—सिरका
 Violet—वैगनी
 Virtual—कल्पित, आभासी
 Visibility—दृश्यता
 Visible—दृश्य
 Vision—दृष्टि
 Visual—चाक्षुष
 Vital—जैव, जीव-संबंधी
 Vitality—जीवन-शक्ति
 Vitricification—काचन
 Void—रिक्त
 Volatile—वाष्पशील
 Volatility—वाष्पशीलता
 Volatilization—वाष्पीकरण
 Volcanic—ज्वालामुखीय
 Volcano—ज्वालामुखी
 Volcanology—ज्वालामुखी-विज्ञान
 Volume—आयतन
 Volumetric—आयतनी
 Voluntary—ऐच्छिक
 Volution—दलन
 Vortex—भ्रमिल
 Vorticity—भ्रमिलता
 Vulcanism—ज्वालामुखी उद्भव
 Vulgar fraction—साधारण भिन्न
 Wage-earner—मजदूर
 Wall—मिति, दीवार
 Wandering—परिभ्रमी
 Warehouse—गोदाम
 Warm—गुनगुना
 Warping—संवलन
 Wart—मस्ता
 Warty—मस्तोदार
 Wasp—धरे
 Waste—रद्दी
 Water clock—जल घड़ी
 Water level—जलतल
 Water-tight—जल-रोधी
 Water weed—जल वनस्पति

Wave—तरंग
 Wavy—तरंगित, उमिल, लहरदार
 Wax—मोम
 Waxy—मोमी
 Weak—तनु, दुर्बल
 Weather—मौसम
 Weathering—अपक्षय
 Webbed—जालयुक्त
 Weight—भार, तौल, वजन, वाट
 Well-ordered—सुक्रमित
 Wetness—गीलापन
 Whirl—चक्कर
 Whirlpool—मैवर
 Whirled—चक्करदार
 Wild basil—वन तुलसी
 Wilting—म्लान होना, कुम्हलाना, मुरझाना
 Wind—वात, पवन
 Windmill—पवन-चक्की
 Winged—सपक्ष
 Wire—तार
 Withdrawal—अपनयन
 Womb—गर्भाशय
 Woolly—लोमश
 Worker—श्रमिक

X

X-ray—एक्स-किरण

Y

Yearling—एकवर्षी
 Yeast—खमीर
 Yield—उत्पाद, प्राप्ति, लब्धि, उपज
 Yolk—पीतक

Z

Zenith—गमच्च, निरोधित
 Zero—शून्य
 Zodiac—गमिचक्र
 Zonal—मंडलीय, वृत्तीय
 Zone—राज्य, प्रदेश, क्षेत्र, मंडल, वृत्तीय
 Zoning—मंडलन
 Zoological garden—निर्दिष्टांगर
 Zoogeography—प्राणि-भूगोल
 Zoologist—प्राणि-विज्ञानी
 Zoology—प्राणि-विज्ञान
 Zooparasite—प्राणि-परजीवी
 Zoophagous—प्राणि-भक्षी

भार्गव डिक्शनरी व हिन्दी शब्द-कोश

[१] सचित्र भार्गव स्टैण्डर्ड अंग्रेजी-हिन्दी डिक्शनरी बड़ी

२२×३६ = १६ पेजी

[२] भार्गव कन्साइज अंग्रेजी-हिन्दी डिक्शनरी छोटी

२२×३६ = ३२ पेजी

[३] भार्गव पॉकेट अंग्रेजी-हिन्दी डिक्शनरी

२०×२६ = ३२ पेजी

[४] सचित्र भार्गव स्टैण्डर्ड हिन्दी-अंग्रेजी डिक्शनरी बड़ी


२२×३६ = १६ पेजी

[५] भार्गव कन्साइज हिन्दी-अंग्रेजी डिक्शनरी छोटी

२२×३६ = ३२ पेजी

[६] भार्गव पॉकेट हिन्दी-अंग्रेजी डिक्शनरी

२०×२६ = ३२ पेजी



प्रथम नवीन संस्करण

भार्गव स्टैण्डर्ड अंग्रेजी-हिन्दी डिक्शनरी

शीघ्र प्रकाशित हो रही है

अपने ढंग की निराली एवं अभूतपूर्व
जिसमें

लगभग ५०००००

नये अंग्रेजी शब्दों का अर्थ अंग्रेजी-हिन्दी में है

[१] भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द-कोश [बड़ा]

साइज २०×३० = ८ पेजी

[२] भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द-कोश [संक्षिप्त]

साइज २०×३० = १६ पेजी

[३] भार्गव बाल हिन्दी शब्द-कोश

साइज २२×३६ = ३२ पेजी

मिलने का पता—श्री गंगा पुस्तकालय, त्रिलोचन